

PĀIA-SADDA-MAHANNAVO

A COMPREHENSIVE PRAKRIT-HINDI DICTIONARY

with Sanskrit equivalents, quotations

AND

complete references

BY

PANDIT HARGOVIND DAS T SHEIH,

Nyaya-Vyakarana-tirtha, Lecturer in Sanskrit Prakrit and Gujarati

Calcutta University Author of "Haribhadraraj Ch. rita"

Late Editor of 'Yashovijaya Jaina Granthamala'

"Jaina Vividha Sahit'ya Shastra-

mala' etc etc

GENERAL EDITORS

Dr. V. S. AGRAWALA,

Banaras Hindu University

Pt DALSUKH BHAI MALVANIA,

Lalbahar Dalpatbhai Vidya Bhavan, Ahmedabad.

PRAKRIT TEXT SOCIETY

V A R A N A S I - 5

SECOND EDITION

1963

प्रकाशक
दलसुख मालवणिया
अन्त्री, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी
वाराणसी-५

द्वितीय संस्करण—१९६३

सर्व स्वत्व संरक्षित


मूल्य—साधारण संस्करण २०)
पुस्तकालय संस्करण ३०)

प्राप्ति स्थान

- १ मोतीलाल बनारसीदास, नेपाली खण्डा, पोस्ट वाक्स ७५, वाराणसी ।
- २ चौखम्बा विद्या भवन, चौक, वाराणसी ।
- ३ गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, गांधी मार्ग, अहमदाबाद-१
- ४ सरस्वती पुस्तक भंडार, रतनपोल, हाथीखाना, अहमदाबाद-१

मुद्रक

तारा प्रिंटिंग वर्क्स
कमन्स, वाराणसी-१



डॉ० राजेन्द्रप्र द जी

समर्पण

प्राकृत भाषा का यह महासौख्य

स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा प्राकृत-ग्रन्थ-परिषद् (प्रा०टे०सी०) के
संस्थापक एवं प्रधान मन्त्री, भारतीय गणतन्त्र के अग्र्य श्रेष्ठानु शिष्य

स्व० डॉ० श्रीगजेन्द्र प्रसाद जी

को सादर समर्पित है,

जिनकी अध्यक्षता में इस कोष के पुनः मुद्रण का निश्चय किया

गया और जिनके करकमलो से इसका प्रागमन सम्भव

सम्भव होना प्रस्तावित था, किन्तु दिव्येच्छा में २८

फरवरी १९६३ को जिनका स्वर्गवास हो जाने

के कारण अब परिषद् की ओर से यह

श्रेष्ठानुलिपि रूप में समर्पित किया

जा रहा है।

—प्राकृत ग्रन्थ परिषद् के सदस्य

The present editors gratefully remember the pioneer work of Sri Hargovind Das Seth whose single-minded devotion and indefatigable labour created a Dictionary of such thorough-going extent. But they are also conscious of the fact that a new scientific dictionary of the Prākṛit language, which should include also the Apabhraṁśī language and literature is required. Since 1928 when Sri Seth put down his pen, a whole library of new Prākṛit and Apabhraṁśī texts with commentaries has come to light. It is a veritable treasure for new words, phrases and references, and quite a number of these texts are still in manuscript form preserved in the Jain Bhandars at different centres in India. Their critical editions have to be undertaken and

then literally value has to be assessed specially from the point of view of new words and meanings incorporated in them. The interpretation of the texts already known when the first edition of the Dictionary was compiled has also progressed and the technical meanings of many words have been recovered. They need to be incorporated in a revised edition or in a new presentation of word material of the Prākṛit language as recorded in its literature. The problem is no doubt vast requiring stout organization and finances but the work has to be done. The Govt of India, various Universities, Prākṛit Institutes and the All-India Oriental Conference should put their heads together for evolving a scheme for the accomplishment of this task, viz the preparation of an up-to-date dictionary on scientific principles of the Prākṛit and Apabhraṃśa literatures which have contributed so much to the Middle Indo-Aryan languages and which truly hold the key to the problem of etymology and semantics relating to the many literary dialects of the medieval and modern period.

It is gratifying that a rich literature of such magnitude as that of Prākṛit has been preserved as our heritage and it is high time when we should wake up to our responsibility. The Prākṛit Text Society is keenly alive to this need but it has already committed itself to the publication of the critical texts of the Āgamas and their commentaries and therefore its resources for some years cannot be diverted to the needs, however urgent they may be, of a fresh dictionary of Prākṛit language as envisaged above.

I cannot close this short statement without making a special appeal to those friends who are engaged on an intensive study of the difficult texts of Old-Hindi, Old-Gujarati etc. They should cultivate the habit of going to the Prākṛit and Apabhraṃśa sources for recovering the meanings of the obscure vocabulary used in those texts which were written at a time when Prākṛit and Apabhraṃśa words found a predominant place in the linguistic consciousness of the people. I would give a few examples —

1. "वरुती सरग जाँत पर दोऊ" : (Padmāvat 149 4) The crux of the meaning of the simple line like this lies in the word *para* meaning to turn, as *वात्वादेश* of Skt *bhrama* (परद = चमदि, Hemchandra, 4.16, Pāsadda)—the earth and the sky both are turning like a mill.

2. "नाइत माँक भँवर हति गोवा । सरजँ कहा मद यह जीवाँ ॥" This is one of the most difficult lines in the Padmāvat and it had never been correctly understood by any previous translator. The secret of the meaning lies in the word *नाइत* (wrongly translated previously as 'bends') which as recorded in the Pāsadda, denoted a naval merchant. The meaning is that to take a sea-faring merchant in the midst of the ocean and there to kill him, is a mean thing, said Saiya (the Chief of Alauddin). The meaning of this word is recorded in the Pāsadda with only one reference to Haubhadra Suri (8th century), but I thought that its usage in the Padmāvat in the 16th century must be evident in the literature of the intervening period. My search proved fruitful and I found it in the Bhavisyata Kabā of Dhanapāla (तो कय विक्रय दाय सहत्तई । अहियुव निजि सयल नाइतई ॥ Bhavisyata Kabā, 8311, Baroda edition, p 52—then the sea merchants met together and began to discuss joyfully their problems of sale and purchase. The word has also been used in the Apabhraṃśa poem Paum-chariu-पायार भूएहि पुर पाइत (Pauma-chariu 317 1, Singhi Jain Granthamālā). On an inscription from Anhilavādi dated VS 1348 its Skt form Nau-vittaka has been used (Indian Antiquary, 1912, p 21), and

Muni Chandia in his commentary on Haribhadra's Upadés-pada record a नौवित्तक as the Skt. form of *Nayatta*. This accumulation of evidence is the proper field of a dictionary and it is of value to show how our correct understanding of the old-texts may benefit from utilizing the Prakrit and Apabhramśa sources. I should like to reinforce this point by drawing attention to some other words from the Avahatta text, *Kitilatā* of which in the recently published Sañjivani commentary* much valuable assistance from the *Pāra-sadda-mahannavo* has been taken. To take another pointed example.

- १५० २ उवह = समीप आता है। सं उप + इ > प्रा० उवे, उवि = पास आना। उवेइ, उवइ (पासह०)।
- १३ माण = अनुभव करना, जानना। सं मान् > प्रा० माण (पासह०)।
- ३२ साहउ—सं साध = वश में करना > प्रा० साह > अव० साहउ (पासह०)।
- ४० चप्परि—सं आ + ऋप् (= आक्रमण करना, दवाना) का धात्वादेश चप्प, चप्परि = आक्रमण करके (पासह०)।
- ४३ सम्पजो—सं सम् + अर्ष्य = अर्पण करना, देना > प्रा० सम्प > अप० सम्प, सपजो (पासह०)।
- ६५ पेह्लअ—सं पूर्य (> पूरा करना) का धात्वादेश पेह्ल, पेह्लइ (पासह०)। प्राकृत में पेह्ल धातु के चार अर्थ हैं—१ सं क्तिप् का धात्वादेश पेह्ल = फेंकना। २ सं प्रेर्य का धात्वादेश पेह्ल = प्रेरित करना। ३ सं पीड्य का धात्वादेश पेह्ल = दवाना। ४ सं पूर्य का धात्वादेश पेह्ल = पूरा करना, भरना।
- ७६ डूर—सं डुठ > प्रा० डुठ > अप० डूर = छुड़कना, लोटना (पासह०)।
- ६६ रिज्—सं रिष > प्रा० अप० रिज्क = रीकना, प्रसन्न होना, रिज्कइ (पासह०)।
- १२३ छाहर = सुन्दर। सं छाया (= काति, शोभा) > प्रा० छाया (पासह०)।
- १२४ विथरि—विथुरे हुए। सं विस्तु > प्रा० वित्थर = फैलाना, बढ़ाना (पासह०)।
- १२५ थारे—गर्बिले, गर्बिष्ठ, भ्रमरमानी, रोवदाव वाले। सं स्तव्य > प्रा० थइठ (पासह०) > थहु > याठ > थार + अ = थारा, थारे।
- १२६ पिवालिय = निबट गया, चुक गया। सं मुच् (= मुकना, चुकना) का प्रा० धात्वादेश पिण्वल (पासह०)।
- २३६ चप्परि—सं आक्रम का धात्वादेश चप्प = आक्रमण करना, दवाना (पासह०)।
- २४३ सहि—सं आ—ज्ञा का प्रा० धात्वादेश सह = हुकुम देना, आदेश करना, फरमाना। सहइ (पासह०)।
- २५२ पल्लु—सं प्रकट्य का धात्वादेश पल (पासह०) सं पत् का भी अप० में पल धात्वादेश होता है (= पडना, गिरना)।
- २५७ नचावहि—सं ज्ञा धातु का धात्वादेश एच्चा, णच्चाण = पहचानना (पासह०)।
- २६५ दरमलअ = मर्दित, चूर्णित। सं मर्दय का धात्वादेश प्रा० अप० दरमल = चूर्ण करना, दलना, मलना (पासह०)।
- २६६ धल—प्रा० धल्ल (सं क्तिप् का धात्वादेश) = फेंकना, डालना, घालना (पासह०)।
- ४८ बोलए—सं व्यतिक्रम धातु का धात्वादेश प्रा० बोल = उल्लंघन करना, छोड़ना। बोलइ, बोलए (पासह०)।
- ७४ झूल = आन्दोलन, शोर। सं शब्द 'आन्दोल' का प्रा० धात्वादेश झुल्ल (पासह०)।
- ९० छाज - सं राज का धात्वादेश छाज = शोभना, शोभित करना (हे० ४।१००)।
- ९१ बोल—सं गम् का धात्वादेश बोल = चलना, गमन करना (पासह०)।
- ९७ कडता = पढ़ते हुए। प्रा० कड्ठ = पढ़ना, उच्चारण करना, सं कृष् का धात्वादेश कडठ = पढ़ना, उच्चारण करना (हे० ४।१०७, पासह०), भोजपुरी में 'कडाव, कडावा, कडाओ' अर्थात् गीत उच्चारण करो, अभी तक कहा जाता है।
- १६१ पारइ—सं शक् का प्राकृत धात्वादेश पार = सकना, समर्थ होना (हे० ४।१०६)।
- १६३ पेह्लिअर्वे—सं पूर्य का प्रा० धात्वादेश पेह्ल = पूरना, भरना (पासह०)।
- १७० ऋष—सं विलप् का धात्वादेश प्रा० अप० ऋष = विलाप।
- २२३ तलप—सं तप् का धात्वादेश तलप = तपना, गर्म होना (पासह०)।
- २७१ पयपइ = कहने लगा। सं प्रजल्प का धात्वादेश पयप = कहना, बोलना। पयपए, पयपइ (पासह०)।
- २७२ पापरे = घोड़े पर सन्नाह कसकर, अश्व को कवच से सज्जित करके। सं सनाह्य का धात्वादेश पक्कर (पासह०)।
- २८२ मेरा—सं मुच् का धात्वादेश प्रा० अप० मिल्, मेल्ल = छोड़ना, त्यागना।
- २८४ पेञ्च-दएठ = संहारे की ध्वनी। सं विगल का धात्वादेश थिप्प, थैप्प > थैव्व = टैक, संहारा (पासह०)।

“मषहूम नरावइ दोम जलो हाय ददस दस गारखो ॥” (Kṛitilātā 2190, Saṅgīvanī edition) In this line all seven words excepting the first depend on their meaning on a good Prākṛit dictionary, e. g.

नरावइ—स० नरकपति = प्रा० परयवइ, परखवइ, गरावइ—अवहट्ट नरावइ = नरकपाल, king of hell ,

दोम = to cause pain, from Sanskrit root दू—Prākṛit वात्वादेश दूम (Hemchandra 4 23) ,

जलो—Skt. यत् —Prākṛit जलो ,

हाय = hastily, in quick succession , deśya Prākṛit हस्य (Deśināma-mālā, 8,59, See Pāsadda)

Such a seemingly simple word cannot be understood without the help of Prākṛit.

In Hindi it means a hand, but its Prākṛit meaning was also as shown above, and that alone suits the context.

ददस—an Avahatta form of Arabic *hadas* signifying *hazrat* or showing the spirits

दस = shows , from Skt. दर्शय—Prākṛit दस्स—Avahatta दस.

गारखो = spirits living in hell, from Skt. नारक > Prākṛit गारय (Pāsadda)

The line thus means—the Makhdūm (religious priest) like the king of hell was frightening the people when quickly he was showing the spirits by performing *hadas*. This is an example which brings home how the problem of understanding the Middle Indo-Aryan literature is closely connected with our understanding of the Prākṛit and Apabhraṃśa literature. For this purpose the Pāsa-Sadda-Mahannavo Dictionary will prove of inestimable help. With this hope it is now being offered in a Second edition which the Prākṛit Text Society is making available in an accessible form

The editors wish to record their grateful thanks to Shri Kapil Deva Giri, Sahityacharya, Asstt. Research Scholar P. T. S and Pt. Madhyacharya, Taikatūtha, Mīmāṃsāchārya who have put in their best efforts in correcting the proofs of the work with praiseworthy devotion

24-3-1963.

VASUDEVA S. AGRAWALA
Professor,
BANARAS HINDU UNIVERSITY

संकेत—सूची

अ	=	अव्यय ।	(पे)	=	पैशाची भाषा ।
अक	=	अकर्मक धातु ।	प्रयो	=	प्रेरणार्थक रिणन्त ।
(अप)	=	अपन्न श भाषा ।	ब	=	बहुवचन ।
(अशो)	=	अशोक शिलालेख ।	भकृ	=	भविष्यत्कृदन्त ।
उम	=	सकर्मक तथा अकर्मक धातु ।	भवि	=	भविष्यत्काल ।
कर्म	=	कर्मणि वाच्य ।	भूका	=	भूतकाल ।
कवकृ	=	कर्मणि-वर्तमान-कृदन्त ।	भूकृ	=	भूत-कृदन्त ।
कृ	=	कृत्य-प्रत्ययान्त ।	(मा)	=	मागधी भाषा ।
क्रि	=	क्रियापद ।	वकृ	=	वर्तमान कृदन्त ।
क्रिवि	=	क्रिया-विशेषण ।	वि	=	विशेषण ।
गु०	=	गुजराती ।	(शौ)	=	शौरसेनी भाषा ।
(चूपे)	=	चूलिकापैशाची भाषा ।	स	=	सर्वनाम ।
त्रि	=	त्रिलिङ्ग ।	सकृ	=	सवन्धक कृदन्त ।
[दे]	=	देश्य-शब्द ।	सक	=	सकर्मक धातु ।
न	=	नपुंसकलिङ्ग ।	स्त्री	=	स्त्रीलिङ्ग ।
पु	=	पुलिङ्ग ।	स्त्रीन	=	स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ।
पुन	=	पुलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ।	हेकृ	=	हेत्वर्थ कृदन्त ।
पुत्री	=	पुलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग ।			

प्रमाण-ग्रन्थों [रेफरेन्सेज़] के संकेतों विवरण

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
अग	= अगविज्जा	प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी—५, १९५७	
अग	= अगचूलिआ	हस्तलिखित ।	
अत	= अतगडदसाओ	१ रॉयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १९०७ २ आगमोदय-समिति, बंबई, १९२०	पत्र
अचु	= अचुअसअअं	वाण्णिविलास प्रेस, मद्रास, १८७२	गाथा
अजि	= अजिअसतिथव	स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८	"
अज्झ	= अज्यात्ममतपरीक्षा	१ भीमसिंह माणक, सवत् १९३३ २ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर	"
अगु	= अगुओगदारसुत्त	१ राय धनपतिसिंहजी बहादुर, कलकत्ता, सवत् १९३६ २ आगमोदय समिति, १९२४ बम्बई,	पत्र
अनु	= अणुत्तरोववाइअदसा	१ रॉयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १९०७ २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२०	पत्र
अभि	= अभिज्ञानशाकुन्तल	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१६	पृष्ठ
अवि	= अविमारक	त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरोद्ध	"
आउ	= आउरपञ्चखाराणपयत्तो	१ जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, सवत् १९६६ २ शा बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६२	गाथा
आक	= १ आवश्यककथा २ आवश्यक-एरज्यालु गन्	हस्तलिखित डॉ इ. ल्युमेन्-संपादित, लाइपजिग, १८९७	पृष्ठ
आख्या	= आख्यानकमणिकोश	प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी—५	
आचा	= आचारागसूत्र	१ डॉ डबल्यु शुनिग् संपादित, लाइपजिग, १९१० + २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१६ ३ प्रो रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १९०६	श्रुतस्कन्ध, अध्य० "
आचानि	= आचाराग-नियुक्ति	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१६	गाथा
आचू	= आवश्यकचूर्णि	हस्तलिखित	अध्ययन
आत्म	= आत्मसबोधकुलक	† हस्तलिखित	गाथा
आत्महि	= आत्महितोपदेश-कुलक	"	"
आत्मानु	= आत्मानुशास्ति-कुलक	"	"
आनि	= आवश्यकनियुक्ति	१ यशोविजय-जैन-ग्रन्थमाला, बनारस । २ हस्तलिखित ।	

११ ऐसी निशानी वाले संस्करणों में अकारादि क्रम से शब्द-सूची छपी हुई है, इससे ऐसे संस्करणों के पृष्ठ आदि के अंकों का उल्लेख प्रस्तुत कोश में बहुधा नहीं किया गया है, क्योंकि पाठक उस शब्द-सूची से ही अभिलिखित शब्द के स्थल को तुरन्त या सकते हैं। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से अंक देने की आवश्यकता प्रतीत हो गई है, वहाँ पर उसी ग्रन्थ की पद्धति के अनुसार अंक दिए गए हैं, जिसने जिससे प्रो असीष्ट स्थल पाने में विशेष सुविधा हो।

+ इन संस्करणों में श्रुतस्कन्ध, अध्ययन और उद्देश के अङ्क ममान होने पर भी सूची के अङ्क भिन्न-भिन्न हैं। इससे इस कोप में जिस संस्करण से जो शब्द लिया गया है उसी का सूत्राङ्क वहाँ पर दिया गया है। अंक की गिनती उसी उद्देश्य या अध्ययन के प्रथम सूत्र के आरम्भ की गई है।

† अद्वैत श्रीपुत केशवलालभाई प्रेमचन्द मोदी, बी ए, एल् एल्., बी से प्राप्त।

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
आप	= आराधनाप्रकरण	शा. बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६२	गाथा
आरा	= आराधनासार	मानिकचन्द-दिगंबर-जैन-ग्रथमाला, सवत् १९७३	"
आव	= आवश्यकसूत्र	हस्तलिखित	...
आवटि	= आवश्यक टिप्पण	देवचन्द लालभाई	"
आवदो	= आवश्यक दीपिका	विजयदानसूरि ग्रथमाला	"
आवपगा	= आवश्यकसूत्रे पत्रे गाथा	(हरिमद्र टीका)	...
आवम	= आवश्यकसूत्र मलयगिरि टीका	हस्तलिखित	...
इदि	= इन्द्रिप्रराजयशतक	भीमसिंह मारोक, बम्बई, सवत् १९६८	गाथा
इक	= दि कोस्मोग्राफी देर् इदेर्	* डा. डवल्यु किरफेल-कृत, लाइपजिग, १९२०	"
उत्त	= उत्तराध्ययनसूत्र	१ शय घनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, सवत् १९३६	अव्ययन, गाथा
		२ स्व-संपादित, कलकत्ता, १९२३	"
		+ ३ हस्तलिखित	"
उत्त	= उत्तराध्ययन सूत्र	देवचन्द लालभाई	"
उत्त का	= "	डो. जे कारपेंटिअर-संपादित, १९२१	"
उत्तनि	= उत्तराध्ययननियुक्ति	हस्तलिखित	"
उत्तर	= उत्तररामचरित	निरांयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५	पृष्ठ
उप	= उपदेशपद	हस्तलिखित	गाथा
उप टी	= उपदेशपद-टीका	हस्तलिखित	मूल-गाथा
उपप	= उपदेशपचाशिका	† "	गाथा
उप पृ	= उपदेशपद	जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालोताणा	पृष्ठ
उर	= उपदेशरत्नाकर	देवचन्द लालभाई पुस्तकालय फड, बम्बई, १९१४	अश, तरंग
उव	= उवएसमाला	* डॉ एल्. पी टेसेटोरि-संपादित, १९१३	"
उवकु	= उवदेशकुलक	† हस्तलिखित	...
उवर	= उपदेशरहस्य	मनसुखभाई भगुभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६७	"
उवा	= उवासगदसाधो	* एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १८९०	...
ऊरु	= ऊरुभग	त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज	...
ओघ	= ओघनियुक्ति	भागमोदय समिति, बम्बई, १९१९	...
ओघ भा	= ओघनियुक्ति-भाष्य	"	...
ओप	= ओपपातिकसूत्र	* डॉ इ ल्युमेन्-संपादित, लाइपजिग, १८८३	...
कप्य	= कल्पसूत्र	* डॉ. एच्. जेकोबी-संपादित, लाइपजिग, १८७९	...
कपू	= कपूरमञ्जरी	* हाईवेई ओरिएन्टल् सिरीज, १९०१	...
कम्म १	= कम्मग्रंथ पहला	* आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक मण्डल, आगरा, १९१८	गाथा
कम्म २	= " दूसरा	* " "	" "
कम्म ३	= " तीसरा	* " "	१९१९ "
कम्म ४	= " चौथा	* " "	१९२३ "

+ सुखबोधा नामक प्राकृत-बहुल टीका से विभूषित यह उत्तराध्ययन सूत्र की हस्त-लिखित प्रति आचार्य श्रीविजय-शेखसूरिजी के भंडार से अध्येय श्रीयुत् के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त हुई थी, इस प्रति के पत्र १८६ हैं।

† अध्येय श्रीयुत् के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त।

संकेत ।	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक । गए हैं वह
कम्म ५	= कर्मग्रन्थ पंचिचौं	१ भीमसिंह माणिक, बम्बई, सवत् १९६८ २ जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, सवत् १९६८	गाथा "
कम्म ६	= ,, छठवाँ	"	"
कम्मप	= कर्मप्रकृति	जैन धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, १९१७	पत्र
करु	= करुणावज्राष्टुधम्	आत्मानन्द जैन-सभा, भावनगर, १९१६	पुष्प
कर्ण	= कर्णभार	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	"
कपूर्	= कपूर्चरित (भाग)	गायकवाड औरिएण्टल् सिरीज, न. ८, १९१८	"
कर्म	= कर्मकुलक	† हस्त-लिखित	गाथा
कल्पभाष्य	= बृहत्कल्प-भाष्य	आत्मानन्द सभा	
,, गा०	= ,, गाथा	"	
कस	= (बृहत्) कल्पसूत्र	* डॉ डबल्यु शुत्रि संपादित, लाइपजिग, १९०५	
कहा	= कहावली	अमुद्रित	
काप्र	= काव्यप्रकाश	चामनाचार्यकृत टीका-युक्त, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई	पुष्प
काल	= कालकाचार्यकथानक	* डॉ एच् जेकोबी-संपादित, जेड्-डी-एम-जी, लंड ३४ १८८०	
किरात	= किराताकुंनोय (व्यायोग)	गायकवाड औरिएण्टल् सिरीज, न ८, १९१८	६
कुप्र	= कुमारपालप्रतिबोध	गायकवाड औरिएण्टल् सिरीज, १९२०	...
कुमा	= कुमारपालचरितं	* बर्बई-संस्कृत सिरीज, १९००	..
कुम्मा	= कुम्मापुतचरिअ	स्व-संपादित, कलकत्ता, १९१६	५
कुलक	= कुलकसप्रह	जैन श्रयस्कर मडल, म्हेसाणा, १९१४	,
खा	= खामणाकुलक	† हस्तलिखित	गा
खेत्त	= लघुश्रेत्रसमास	भीमसिंह माणिक, बर्बई, सवत् १९६८	"
गउड	= गउडवहो	* बर्बई-संस्कृत-सिरीज, १८८७	
गउछ	= गउछाचारपपन्नो	१ हस्तलिखित	अधिकार,
		२ चदुलाल मोहोलाला कोठारी, अहमदाबाद, सवत् १०८०	,"
		३ सेठ जमनाभाई भगूभाई, अहमदाबाद, १९२४	"
गण	= गणधरस्मरण	स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८	गाथ
गणि	= गणिविज्जापयन्नो	राय धनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, १८४२	"
गा	= गाथासप्तशती	+ १ डॉ. ए वेवर्-संपादित, लाइपजिग, १८८१ २ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९११	" "
गु	= गुरुपारतन्त्र्य-स्मरण	स्व संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८	गाथा
गुण	= गुणानुरागकुलक	श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३	"
गुमा	= गुरुवन्दनभाष्य	भीमसिंह माणिक, बम्बई सवत् १९६२	... गाथा

† श्रद्धेय के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त ।

+ लाइपजिगवाले संस्करण का नाम "सप्तशतक डेस हाल" है और बम्बईवाले का "गाथासप्तशती" । अन्य एक ही है, बम्बईवाले संस्करण में सात शतको के विभाग में करीब ७०० गाथाएँ छपी हैं और लाइपजिगवाले में सीधे नबर से ठीक १००० । एक ७०० तक की गाथाएँ दोनों संस्करणों में एक सी हैं, परन्तु गाथाओं के क्रम में कहीं कहीं दो चार नबरो का आगा-पीछा है । ७०० के का और ७०० के भीतर भी जहाँ गाथाक के अनन्तर 'अ' दिया है वह नबर केवल लाइपजिग के ही संस्करण का है ।

संकेत	ग्रंथ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
गुरु	= गुरुप्रदक्षिणाकुलक	श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९६३	गाथा
गोप	= गौतमकुलक	भीमसिंह माणोक, बम्बई, सवत् १९६५	...
चउ	= चउसररणपयन्त्रो	१ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सवत् १९६६ २ शा. बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, सवत् १९६२
चउ	= चउपन्नमहापुरिसचरिय	प्राकृत ग्रथ-परिपद्, दाराखसी—५, १९६१	..
चड	= प्राकृतलक्षण	* एसियाटिक सोसासायटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८०	...
चद	= चदपञ्चति	हस्तलिखित	...
चार	= चारदत्त	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	...
चेइय	= चेइयवदरणमहाभास	जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, सवत् १९६२	..
चैय	= चैत्यवन्दन भाष्य	भीमसिंह माणोक, बम्बई, सवत् १९६२	..
ज	= जवूद्वीपप्रज्ञप्ति	१ देवचद लालभाई पु० फड, बम्बई, १९१० २ हस्तलिखित
जय	= जयतिहुअण स्तोत्र	जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम, प्रथमावृत्ति	..
जिन	= जिनदत्ताख्यान	सिधी जैन सिरीज	..
जी	= जीवविचार	आत्मानन्द जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, सवत् १९७८	..
जीत	= जीतकल्प	हस्तलिखित	...
जीव	= जीवाजीवाभिगमसूत्र	देवचद लालभाई पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९१९	...
जीवस	= जीवसमासप्रकरण	† हस्तलिखित	...
जीवा	= जीवानुशासनकुलक	श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३	...
जो	= ज्योतिष्करण्डक	हस्तलिखित	...
टि	= + टिप्पण (पाठान्तर)
टी	= † टीका
ठा	= ठाणगसुत्त (स्थनागसूत्र)	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९१८-१९२०	...
णदि	= णदिसूत्र	१ हस्तलिखित २ आगमोदय समिति, बम्बई, १९२४
णमि	= णमिऊण स्मरण	स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८	...
णाय	= णायामम्मकहासुत्त	आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९	..
तडु	= तडुलवेयालियपयन्त्रो	१ हस्तलिखित २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९६२
ति	= तिजयमहत्त	जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १९११	...
तित्य	= तित्युणालियपयन्त्रो	हस्तलिखित	...
ती	= तीर्थकल्प	हस्तलिखित	...
त्रि	= त्रिपुरदाह (डिम)	गायकवाड ओरिएण्टल् सिरीज, न न, १९१८	...

† अद्वैत श्रीयुत्त के० प्रे० मोदी द्वारा प्राप्त ।

+ पाठान्तर वाले संस्करणों के जो पाठान्तर हमें उपादेय मालूम पड़े हैं उन्हें भी इस कोष में स्थान दिया है और प्रमाण के पास 'टि' शब्द जोड़ दिया है जिससे उस शब्द को उसी स्थान के टिप्पण का समझना चाहिए ।

‡ जहाँ पर प्रमाण में ग्रंथ संकेत और स्थान-निर्देश के अन्तर 'टी' शब्द लिखा है वहाँ उस ग्रंथ के उसी स्थान की टीका के प्राकृत्याश से मतलब है ।

सकेल	ग्रथ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
द	= दंडकप्रकरण	१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १९११ २ भीमसिंह माणिक, बम्बई, १९०८	• गाथा ... "
दंस	= दर्शनशुद्धिप्रकरण	हस्तलिखित	... तत्त्व
दशअग्रहस्त्य दशवैतू	} = दशवैकालिक अग्रहस्त्य सिंहचूरी	P. T. S.	..
दस	= दसवैकालिकसूत्र	१ भीमसिंह माणिक, बम्बई, १९०० २ डॉ० जीवराज घेलाभाई, अहमदाबाद, १९६२	• अभ्ययन० ... "
दसचू	= दशवैकालिकचूलिका	" " "	• चूलिका०
दसनि	= दशवैकालिकनिपुंक्ति	१ भीमसिंह माणिक, बम्बई, १९०० २ देवचन्द लालभाई	• अभ्ययन, गाथा
दशवैशुद्ध	= दशवैकालिक शुद्ध विवरण	मुद्रित चूरी, ऋषभदेव केसरीमल	
दसा	= दशाश्रुतस्कन्ध	हस्तलिखित	.. "
दीव	= दीवसागरपन्नति	"	..
दूत	= दूतघटोत्कच	त्रिवेन्द्र सस्कृत-सिरीज	• पृष्ठ
देश	= देशीनाममाला	बम्बई सस्कृत-सिरीज, १८८०	• वर्ग, गाथा
देव	= देवेन्द्रस्तवप्रकीर्णक	हस्तलिखित	•
देवदिन	= देवदिन कथानक	"	
देवेन्द्र	= देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरण	जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९२२	• गाथा
द्र	= द्रव्यसित्तरी	१ जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत् १९५८ २ शा० वेणीचद सूरचद, म्हेसाणा, १९०६	• "
द्रव्य	= द्रव्यसग्रह	जैन-ग्रंथ-रत्नाकर-कार्यालय, बंबई, १९०६	• "
धण	= ऋषभमचेशिका	कव्यमाला, सप्तम गुच्छक, बंबई, १८९०	• "
धम्म	= धर्मरत्नप्रकरण सटीक	१ जैन-विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा, १९०५ २ हस्तलिखित	• मूल-गाथा .. "
धम्मि	= धम्मिलहिंडी (वसुदेवहिंडी अन्तर्गत)	आत्मानन्द सभा	..
धम्मो	= धम्मोवएसकुलक	† हस्तलिखित	• गाथा
धर्म	= धर्मसग्रह	जैन विद्या-प्रचारक वर्ग, पालीताणा, १९०५	• अधिकार
धर्मर	= धर्मरत्नलघुवृत्ति	आत्मानन्द सभा	
धर्मवि	= धर्मविधिप्रकरण सटीक	जैसगभाई छोटालाल सुत्तरीया, अहमदाबाद, १९२४	• पत्र
धर्मस	= धर्मसग्रहणी	दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बंबई, १९१६-१८	• गाथा
धर्मा	= धर्मस्युद्धय	जैन-आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१८	• पृष्ठ
धात्वा	= प्राकृतधात्वादेश	एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, १९२४	• पृष्ठ
ध्व	= ध्वन्यालीक	निरांयसागर प्रेस, बंबई	• "
नदीटिप्प	= नन्दीटिप्पण	P T S	
नलदवरास	= नलदवदंतीरास (ऋषिवर्धन),	वेन्डर सपादित	

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
नव	= नवतत्त्वप्रकरण	१ आत्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर २ आद्य-जैन धर्म-प्रवर्तक-सभा, अहमदाबाद, १९०६	.. गाथा
नाट	= † नाटकीयप्राकृतशब्दसूची		..
निबू	= निशीथसूत्रिण	हस्तलिखित	.. उद्देश
निर	= निरयावलीसूत्र	१ हस्तलिखित २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२२	... वर्ग, अथर्व०
निसा	= निशाविरामकुलक	† हस्तलिखित	... गाथा
निसी	= निशीथसूत्र	हस्तलिखित	... उद्देश
पचम	= पचमचरित्र	जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति	पर्व, गाथा
पचम	= पचमचरिय	प्राकृत-ग्रन्थ-परिपद, वाराणसी-५	..
पच	= पचसग्रह	१ हस्तलिखित २ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १९१९	द्वार, गाथा
पचमा	= पंचकल्पभाष्य	हस्तलिखित	..
पचव	= पचवस्तु	..	द्वार
पचा	= पचासकप्रकरण	जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति	... पचासक
पंचू	= पंचकल्पसूत्रिण	हस्तलिखित	...
पनि	= पचनिर्गन्थीप्रकरण	आत्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, सवत् १९७४	... गाथा
पंच	= पंचरात्र	त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज	... प्रष्ट
पंसू	= पंचसूत्र	हस्तलिखित	... सूत्र

† सेंट्रल लाइब्रेरी, बड़ोदा में स्थित एक मुद्रण-हीन पुस्तक से गृहीत, जिसके पूर्व भाग में क्रमदीर्घर का प्राकृत व्याकरण और उत्तर भागमें 'प्राकृताभिधानम्' शीर्षक से कतिपय ग्रन्थों से उद्धृत प्राकृत शब्दों की एक छोटी सी सूची छपी हुई है। इस सूची में उन ग्रन्थों के जो सक्षिप्त नाम और प्रुष्टाङ्क दिए गये हैं वे ही नाम तथा प्रुष्टाङ्क ज्यों के ध्यो प्रस्तुत कोप में भी यथास्थान 'नाट' के बाद रखे गये हैं। उक्त पुस्तक में उन ग्रन्थों के सक्षिप्त नामों तथा संस्करणों का विवरण इस तरह है,—

मालती	tor	मालतीमाधवम्	Calcutta Edition of 1830
चैत	"	चैतन्यचन्द्रोदयम्	" 1854
विक्र	"	विक्रमोर्वशी	" 1830
साहित्य	"	साहित्यदर्पण	Edition of Asiatic Society
उत्तर	"	उत्तररामचरित	Calcutta Edition of 1831
रत्ना	"	रत्नाचली	" 1832
मृच्छ	"	मृच्छकटिक	" 1832
प्राप्र	"	प्राकृतप्रकाश	Mr Cowell's Edition of 1854
शकु	"	शकुन्तला	Calcutta Edition of 1840
मालवि	"	मालविकाग्निमित्र	Tulberg's Edition of 1850
वेरिण	"	वेरिणसहार	Muktaram's Edition of 1855
पाप	"	सक्षिप्तसारस्य प्राकृतान्याय	
महावी	"	महावीरचरितम्	Trithen's Edition of 1848
पिग	"	पिगल	Ms.

† अर्द्धेय के. प्रै. भोदी द्वारा प्राप्त।

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
पक्खि	= पक्खिसूत्र	भीमसिंह माखेक, बम्बई, संवत् १९६२	.
पच्च	= महापच्चवक्खाराणपयत्तो	शा बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत् १९६२	गाथा
पडि	= पचप्रतिक्रमणसूत्र	१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १९११ २ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक मंडल, आगरा, १९२१	
परएण	= परएणवणसुत्त	राय धनपतिसिंह बहादुर, बनारस, संवत् १९४०	पद
परहू	= प्रश्नव्याकरणसूत्र	आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९	श्रुतस्कन्ध, द्वार
पभा	= पच्चवक्खाराणभाष्य	भीमसिंह माखेक, बम्बई, संवत् १९६२	** गाथा
पव	= प्रवचनसारोद्धार	१ , संवत् १९३४ २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९२२-२५	+ द्वार "
पस	= प्रज्ञापनोपाङ्ग-तृतीयपदसग्रहणी	आत्मानन्द-जैन सभा, भावनगर, संवत् १९७४	गाथा
पाथ	= पाइअलच्छीनाममाला	* बी. बी एरड कपनी, भावनगर, संवत् १९७३	**
पाथं	= पार्थपरारक्रम	गायकवाड थोरिएटल सिरीज, न ४, १९१७	पृष्ठ
पि	= ग्रामेटिक् देर् प्राकृत स्त्राखन्	डा. आर्. पिशेल कृत, १९००	पैरा
पिग	= प्राकृतपिगल	* एसियाटिक् सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १९०२	**
पिड	= पिडनियुक्ति	१ हस्तलिखित २ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९२२	*** गाथा "
पिडभा	= पिडनियुक्तिभाष्य	"	** "
पुष्फ	= पुष्पमालाप्रकरण	जैन-श्रेयस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १९११	"
प्रलि	= प्रतिमानाटक	त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज	पृष्ठ
प्रबो	= प्रबोधचन्द्रोदय	निरणयसागर प्रेस, बम्बई, १९१०	"
प्रयो	= प्रतिज्ञायौगन्धरायण	त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरीज	"
प्रवि	= प्रव्रज्या-विधान-श्रुतक	† हस्तलिखित	गाथा
प्राकृ	= प्राकृतसर्वस्व (मार्कण्डेयकृत)	बिष्णुभाषटम्, विशाखापट्टणम्	पृष्ठ
प्राप	= इन्द्रकटकशान् दु दि प्राकृत	* पजाव युनिवर्सिटी, लाहौर, १९१७	
प्राप्र	= प्राकृतप्रकाश	* १ डा. कावेल्-संपादित, लडन, १८८८ * २ बगीय-साहित्य-परिषद्, कलकत्ता, १९१४	**
प्रामा	= प्राकृतमार्गोपदेशिका	* शाह हर्षचन्द्र भूराभाई, बनारस, १९११	
प्राखू	= प्राकृतशब्दरूपावली	* सेठ मनसुखभाई भगुभाई, अहमदाबाद, संवत् १९६८	
प्रासू	= प्राकृतसूक्त-रत्नमाला	जैन-विविध-साहित्य-शास्त्र-माला, बनारस, १९१९	गाथा
वाल	= बालचरित	त्रिवेन्द्र-संस्कृत-सिरीज	पृष्ठ
वृह	= बृहत्कल्पभाष्य	हस्तलिखित	उद्देश
भग	= भगवतीसूत्र	* १ जिनागमप्रकाश सभा, बम्बई, संवत् १९७४ २ हस्तलिखित	शतक, उद्देश
भक्त	= भक्तपरिणामपयत्तो	३ आगमोदय समिति, बम्बई, १९१८-१९१९-१९२१ १ जैन-वर्ग-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत् १९६६ २ शा. बालाभाई ककलभाई, अहमदाबाद, संवत् १९६२	" गाथा "
भववुकथा	= भवभावनावृत्तिकथा	देवचन्द लालभाई	

† द्वार—प्रारम्भ के पूर्व के प्रस्ताव के लिए 'पव' के बाद केवल गाथा के अंक दिए गए हैं ।

† अद्वेय श्रियुत के. प्रे. भोदी द्वारा प्राप्त ।

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
भवि	= भविसत्तकहा	* १ डा एच् जेकोवी संपादित १९१८ * २ गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, १९२३	
भाव	= भावकुलक	श्रवालाल गोवर्धनदास, बम्बई १९१३	गाथा
भास	= भाषारहस्य	सेठ मनमुखभाई भगुभाई, अहमदाबाद	"
मगल	= मगलकुलक	† हस्तलिखित	"
मध्य	= मध्यमव्यायोग	त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरीज	... * " पृष्ठ
मन	= मनोनिग्रहभावना	† हस्तलिखित	गाथा
महा	= प्राउसगेव्याल्ले एरस्यालुगन् इन् महाराष्ट्री	ॐ डॉ एच जेकोवी-संपादित, लाइपजिग, १८८६	
महानि	= महानिशोषसूत्र	हस्तलिखित	अध्ययन
मा	= मालविकाग्निमित्र	निराँयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५	पृष्ठ
माल	= मालतीमाधव	" "	"
मुण्ड	= मुनिमुन्नतस्वामिचरित	हस्तलिखित	गाथा
मुद्रा	= मुद्राराक्षस	बम्बई-संस्कृत-सिरीज, १९१५	पृष्ठ
मृच्छ	= मृच्छकटिक	१ निराँयसागर प्रेस, बम्बई, १९१६ २ बम्बई संस्कृत-सिरीज, १८९६	"
मै	= मैथिलीकल्पारा	मारिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९७३	"
मोह	= मोहराजपराज्य	गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, नं ९, १९१८	"
यति	= यतिशिक्षापचाशिका	† हस्तलिखित	गाथा
रभा	= रभामजरी	* निराँयसागर प्रेस, बम्बई, १८८६	"
रत्न	= रत्नत्रयकुलक	† हस्तलिखित	गाथा
रयण	= रयणसेहरनिवकहा	स्व-संपादित, बनारस, १९१८	पृष्ठ
राज	= अग्निवालराजेन्द्र	* जैन-प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम	
राय	= रायपसेर्योसुत्त	१ हस्तलिखित २ आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२५	पत्र
रविम	= रविमयी-हरण (ईहामुग)	गायकवाड थोरिएण्टल सिरीज, नं ८, १९१८	पृष्ठ
लघु	= लघुसुप्रहरी	भीमसिंह माणिक, बम्बई, १९०८	गाथा
लघुप्र	= लघुअजितशान्ति-स्मरण	स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७८	"
लोक	= लोकप्रकाश	देवचन्द लालभाई	
वजा	= वजालग	एसिमाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता	पृष्ठ
वव	= व्यवहारसूत्र, सभाष्य	१ हस्तलिखित २ युनि माणिक संपादित, भावनगर, १९२६	उद्देश्य
वसु	= वसुदेवहिंडी	१ हस्तलिखित २ आत्मानन्द सभा	"
वा	= वाग्भटकाव्यानुशासन	निराँयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५	पृष्ठ
वाप्र	= वाग्भटालकार	" १९१६	"
वि	= विषयस्यागोपदेशकुलक	† हस्तलिखित	गाथा

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
विक्र	= विक्रमोर्वशीय	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१४	पृष्ठ
विक्र	= विक्रान्तकौरव	मार्शाकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थ-माला, सवत् १९७२	"
विचार	= विचारसारप्रकरण	आगमोदय-समिति, बम्बई, १९२३	गाथा
विषा	= विषाकभृत	स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत् १९७६	श्रु तस्कांघ, ग्रन्थ०
विवे	= विवेकमंजरीप्रकरण	स्व-संपादित, बनारस, संवत् १९७५-७६	गाथा
विसे	= विशेषावश्यकभाष्य	स्व संपादित बनारस, वीर-सवत् २४२१	"
वृष	= वृषभानुजा	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८९५	पृष्ठ
वेणी	= वेणीसहार	निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५	"
वै	= वैराग्यशतक	विट्टलभाई जीवामाई पटेल, ग्रहमदावाद, १९२०	गाथा
श्रा	= श्राद्धप्रतिक्रमणसूत्रवृत्ति	दे०ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १९१९	मूलगाथा
श्रावक	= श्रावकप्रज्ञप्ति	१ श्रीयुत केशवलाल प्रेमचन्द संपादित, १९०५ २ जैन धर्म शाखा	गाथा
श्रु	= श्रु तास्वाद	† हस्तलिखित	"
षड्	= षड्भाषाचन्द्रिका	* बम्बई संस्कृत एण्ड् प्राकृत सिरीज, १९१६	"
स	= समराइचकहा	एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १९०८-२३	पृष्ठ
स	= सवोधसत्तरी	विट्टलभाई जीवामाई पटेल, ग्रहमदावाद, १९२०	गाथा
सक्षि	= सक्षिसार	१ हस्तलिखित २ संस्कृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १८८९	पृष्ठ
सग	= बृहत्सग्रहणी	१ भीमसिंह मारोक, बम्बई, सवत् १९६८ २ आत्मानन्द जैन समा, भावनगर, सवत् १९७३	गाथा
सघ	= सघाचारभाष्य	हस्तलिखित	"
संघ	= शान्तिनाथचरित्र (देवचन्द्रसूरि कृत)	"	प्रस्ताव
सति	= सतिकरस्तोत्र	१ जैन-ज्ञान प्रसारक-मंडल, बम्बई, १९११ २ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, आगरा, १९२१	गाथा
संधा	= संधारगपयत्रो	१ हस्तलिखित २ जैन-धर्म-प्रचारक-सभा, भावनगर, सवत् १९६६	"
सबोध	= सबोधप्रकरण	जैन-ग्रन्थ-प्रकाशक-सभा, ग्रहमदावाद, १९१६	"
सवे	= सवेगभूलिकाकुलक	† हस्तलिखित	पत्र
सवेग	= सवेगमंजरी	"	गाथा
सद्धि	= सद्धिसयपरण्य	१ स्व-संपादित, बनारस, १९१७ २ सत्यविलय-जैन-ग्रन्थमाला, नं ६, ग्रहमदावाद, १९२५	"
सण	= सनत्कुमारचरित	* डॉ एच जेकोबी-संपादित, १९२१	"
सत्त	= उपदेशसप्ततिका	जैन धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सवत् १९७६	गाथा
सम	= समवायगमूत्र	आगमोदय समिति, बम्बई, १९१८	पृष्ठ
समु	= समुद्रमन्यन (समवकार)	गायकवाड श्रीरिएण्टल सिरीज, नं ८, १९१८	"
सम्म	= सम्मत्तिसूत्र	जैन-धर्म प्रसारक-सभा, भावनगर, सवत् १९६५	गाथा

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण आदि	जिसके अंक दिए गए हैं वह
सम्पत्त	=	सम्यक्त्वसंपत्ति सटीक	दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बम्बई, १९१६
सम्य	=	सम्यक्त्वस्वल्प पञ्चोत्ती	शंभालाल गोवर्धनदास, बम्बई, १९१३
सम्यक्त्वो	=	सम्यक्त्वोत्पादविधिकुलक	† हस्तलिखित
सा	=	सामान्यग्रन्थोपदेशकुलक	”
साधं	=	गणधरसाधंशतकप्रकरण	जौहरी जुम्नोलाल पन्नालाल, बम्बई, १९१६
सिक्खा	=	शिक्षाशतक	† हस्तलिखित
सिग्ध	=	सिग्धमवहूरज-भरण	स्व संपादित, बलकता, सवत् १९७८
सिरि	=	सिरिसिरिवालकहा	दे० ला पुस्तकोद्धार फड, बम्बई १९२३
सुख	=	सुखबोधा टीका (उत्तराध्ययनस्य) ‡	हस्तलिखित
सुखज	=	सूर्यप्रज्ञप्ति	आगमोदय-समिति बम्बई, १९१६
सुपा	=	सुपासनाहचरित्र	स्व-संपादित बनारस, १९१८-१९
सुर	=	सुरसुदरीचरित्र	जैन-विनिघ-साहित्य-शाल-माला, बनारस, १९१६
सूत्र	=	सूत्रगडागमुत्त	+ १ भीमसिंह माणिक, बंबई, १९३६ २ आगमोदय समिति, बंबई, सवत् १९१७
सूत्रनि	=	सूत्रकृताङ्गनियुक्ति	१ हस्तलिखित २ आगमोदय-समिति, बंबई, सवत् १९७३ ३ भीमसिंह माणिक ” ” १९३६
सूक्त	=	सूक्तमुक्तावली	दे० ला० पुस्तकोद्धार फड, बंबई, १९२२
सूत्रचू	=	सूत्रकृतागच्छरिण	P ' I ' ६
से	=	सेतुबध	निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८६५
स्वप्न	=	स्वप्नवासवदत्त	त्रिवेन्द्र संस्कृत-सिरीज
हम्मौर	=	हम्मौरमदमर्दन	गायकवाड थ्रोरिएण्टल सिरीज, न. १०, १९२०
हास्य	=	हास्यचूडामणि (प्रहसन)	”
हि	=	हितोपदेशकुलक	† हस्तलिखित
हित	=	हितोपदेशसारकुलक	”
हे	=	हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण	* १ डॉ आर् पिरोल्-संपादित, १८७७ २ बंबई-संस्कृत-सिरीज, १९००
हेना	=	हेमचन्द्र-काव्यानुशासन	निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९०१

† अद्वैत श्रीगुप्त के प्रे मोदी द्वारा प्राप्त ।

‡ देवो 'उत्त' के नीचे की टिप्पणी ।

+ सूत्र के अंक इन दोनों में भिन्न भिन्न हैं, प्रस्तुत कोष में सूत्रांक केवल भी. मा के संस्करण के लिए गये हैं ।

प्रथम संस्करण में लेखक के निवेदन

कोई भी भाषा के ज्ञान के लिए उस भाषा का व्याकरण और कोष प्रदान साधन है। प्राकृत भाषा के प्राचीन व्याकरण अनेक हैं, जिनमें चड का प्राकृतलक्षण, वररुचि का प्राकृतप्रकाश, हेमाचार्य का सिद्धहेम (अष्टम अध्याय), मार्कण्डेय का प्राकृतसर्वस्व प्रीर लक्ष्मीधर की षड्भाषाचन्द्रिका मुख्य हैं। और श्रवचीन प्राकृत व्याकरणों की सख्या अल्प होने पर भी उनमें जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्राकृत-विद्वान् डॉ पिशाल का प्राकृतव्याकरण सर्वश्रेष्ठ है जो अतिविस्तृत और तुलनात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोष के विषय में यह बात नहीं है। प्राकृत के प्राचीन कोषों में अद्यापि पर्यन्त केवल दो ही कोष उपलब्ध हुए हैं—परिडत्त वनपालकृत पाण्डुअलच्छीनाममाला और हेमाचार्य-प्रणीत देशीनाममाला। इनमें पहला अतिसक्षिप्त—दो सौ से भी कम पद्यों में ही समाप्त और दूसरा केवल देश्य शब्दों का कोष है। इनके सिवा अन्य कोई भी प्राकृत का कोष न होनेसे प्राकृत के हरएक अग्न्यासी को अपने अग्न्याम में बहुत असुविधा होती थी, खुद मुझे भी अपने प्राकृत-ग्रन्थों के अनुशीलन-काल में इस अभाव का कटु अनुभव हुआ करता था। इससे आज से करीब पनरह साल पहले पूज्यपाद, प्रात-स्मरणीय, युक्वयं शास्त्र-विशारद जैनचार्य श्री १८०८ श्री विजयवर्मसूरीश्वरजी महाराज की प्रेरणा से प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने का मैंने विचार किया था।

इसी अरसे में श्री राजेन्द्र स्मिजो का अभिवानराजेन्द्र नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और अभी दो वर्ष हुए इनका अन्तिम भाग भी बाहर हो गया है। बड़ी बड़ी सात जिल्दों में यह कोष समाप्त हुआ है। इस संपूर्ण कोष का मूल्य २६० रुपये है जो परिश्रम और ग्रन्थ-परिमाण में अधिक नहीं कहे जा सकते। यद्यपि इस कोष की विस्तृत आलोचना करने की न तो यहाँ जगह है, न आवश्यकता ही, तथापि यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इसकी तय्यारी में इसके कर्ता और उसके सहकारियों को सचमुच घोर परिश्रम करना पड़ा है और प्रकाशन में जैन श्वेताम्बर सघ को भारी धन-व्यय। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कर्ता को सफलता की अपेक्षा निष्फलता ही अधिक मिली है और प्रकाशक के धनका अपव्यय ही विशेष हुआ है। सफलता न मिलने का कारण भी स्पष्ट है। इस ग्रन्थ को थोड़े गौर से देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था और न प्राकृत शब्द-कोष के निर्माण की उतनी प्रबल इच्छा, जितनी जैन दर्शन-शास्त्र और तर्क-शास्त्र के विषय में अपने पारिडत्यप्रख्यापन की धुन। इसी धुन ने अपने परिश्रम को योग्य दिशा में ले जानेवाले विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है। यही कारण है कि इस कोष का निर्माण, केवल पचहत्तर से भी कम प्राकृत जैन पुस्तकों के ही, जिनमें अर्धमागधी के दर्शनविषयक ग्रन्थों की बहुलता है, आधार पर किया गया है और प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाओं के तथा विभिन्न विषयों के अनेक जैन तथा जैनेतर ग्रन्थों में एक का भी उपयोग नहीं किया गया है। इससे यह कोष व्यापक न होकर प्राकृत भाषा का एकदेशीय कोष हुआ है। इसके सिवा प्राकृत तथा संस्कृत ग्रन्थों के विस्तृत अर्थों को और कही-कही तो छोटे-बड़े संपूर्ण ग्रन्थों की अवतरण के रूप में उद्धृत करने के कारण पृष्ठ-सख्या में बहुत बड़ा होने पर भी शब्द-सख्या में ऊन ही नहीं, बल्कि आधार-भूत ग्रन्थों में आए हुए कई उपयुक्त शब्दों को छोड़ देने से और विशेषार्थ-हीन प्रतिदीर्घ सामासिक शब्दों की भरती से वास्तविक शब्द-सख्या में यह कोष अतिन्यून भी है। इतना ही नहीं, इस कोष में आदर्श पुस्तकों की, अभावधानी की और प्रेस की तो असंख्य अशुद्धियाँ हैं ही, प्राकृत भाषा के अज्ञान से सबन्ध रखनेवाली भूलों की भी कमी नहीं है। और सबसे बड़कर दोष इस कोष में यह है कि वाचस्पत्य, अनेकान्नजयपताका, अष्टक, रत्नाकरावतारिका आदि केवल संस्कृत के और जैन इतिहास जैसे

१ जैसे 'वेद्य' शब्द की व्याख्या में प्रतिमाशतक नामक मठीक संस्कृत ग्रन्थ की आदि से लेकर अन्त तक उद्धृत किया गया है। इस ग्रन्थ की श्लोक-संख्या करीब पाँच हजार है।

२ अक्ष = अकं आदि।

३ जैसे अइ-तिवख-रोस, अइ-दुक्ख-धम्म, अइ-तिव्व-कम्म-विगम, अकुसल-जोग-शिरोह, आचथे(?)उर-पर-घर-प्येवेस, अजिम्म(?)कत-एयणा, अजस सय-विसप्पमारण-हियय, अजहएणुको(?)स-पएसिय आदि। इन शब्दों का इनके अवयवों की अपेक्षा कुछ भी विशेष अर्थ नहीं है।

केवल आधुनिक गुजराती ग्रन्थों के संस्कृत और गुजराती शब्दों पर से कोरी निजी कल्पना से ही बनाये हुए प्राकृत शब्दों की इसमें खूब मिलावट की गई है, जिससे इस कोष की प्रामाणिकता ही एकदम नष्ट हो गई है। ये और अन्य अनेक अज्ञान्य दोषों के कारण साधारण अग्राह्यों के लिए इस कोष का उपयोग जितना आमक और भयकर है, विद्वानों के लिए भी उतना ही क्लेशकर है।

इस तरह प्राकृत के विविध भेदों और विषयों के जैन तथा जैनतर साहित्य के यथेष्ट शब्दों से संकलित, आवश्यक अवतरणों से युक्त, शुद्ध एवं प्रामाणिक कोष का नितान्त अभाव बना ही रहा। इस अभाव की पूर्ति के लिये मैंने अपने उक्त विचार को कार्य-रूप में परिणत करने का दृढ़ संकल्प किया और तदनुसार शीघ्र ही प्रयत्न भी शुरु कर दिया गया, जिसका फल प्रस्तुत कोष के रूप में चौदह वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात् आज पाठकों के सामने उपस्थित है।

प्रस्तुत कोष की तय्यारी में जो अनेक कठिनाइयाँ मुझे भेजनी पड़ी हैं उनमें सर्व-प्रथम प्राकृत के शुद्ध पुस्तकों के विषय में थी। प्राकृत का विशाल साहित्य-भण्डार विविध विषयक ग्रन्थ-रत्नों से पूर्ण होने पर भी आज तक वह यथेष्ट रूप में प्रकाशित ही नहीं हुआ है। और हस्त-लिखित पुस्तकों तो बहुधा अज्ञान लेखकों के हाथ से लिखी जानेके कारण प्रायः अशुद्ध ही हुआ करती हैं, परन्तु आज तक जो प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे भी, न्यूनाधिक परिमाण में, अशुद्धिओं से खाली नहीं हैं। अलबत यूरोप की और इस देश की कुछ पुस्तकें ऐसी उत्तम पद्धति से छपी हुई हैं कि जिनमें अशुद्धियाँ बहुत ही कम हैं, और जो कुछ रह भी गई हैं वे उनमें टिप्पणियों में दिए हुए अन्य प्रतियों के पाठान्तरों से सुधारी जा सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे संस्करणों की संख्या बहुत ही अल्प—नगण्य है। सचमुच, यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय और खास कर हमारे जैन विद्वान् प्राचीन पुस्तकों के संशोधन में अधिक हस्तलिखित पुस्तकों का उपयोग करने की और उनके भिन्न-भिन्न पाठों को टिप्पणियों के आकार में उद्धृत करने की तकलीफ ही नहीं उठाते। इसका नतीजा यह होता है कि संशोधक की बुद्धि में जो पाठ शुद्ध मालूम होता है वही एक, फिर चाहे वह वास्तव में अशुद्ध ही क्यों न हो, पाठकों को देखने को मिलता है। प्राकृत के क्षतर मुद्रित ग्रन्थों की तो यह दुर्दशा है ही, परन्तु जैनो के पवित्रतम और अति प्राचीन आगम-ग्रन्थों की भी यही अवस्था है। कई वर्षों के पहले मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध धन-कुबेर राय धनपतिसिंहजी बहादुर ने अनेक आगम-ग्रन्थ भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न संशोधकों से संपादित करा कर छपवाये थे, जिनमें अधिकांश अज्ञानी संशोधकों से सम्पादित होनेके कारण खूब ही अशुद्ध छपे थे। किन्तु अभी कुछ ही वर्ष हुए हमारी आगमोदय समिति ने अच्छा फंड एकत्रित करके भी जो आगमों के ग्रन्थ छपवाये हैं वे कागज, छपाई सफाई आदि बाह्य शरीर की सजावट में सुन्दर होने पर भी शुद्धता के विषय में बहुधा पूर्वोक्त संस्करणों की पुनरावृत्ति ही है। क्योंकि, न किसी में आदर्श-पुस्तकों के पाठान्तर दे का परिश्रम किया गया है, न मूल और टीका के प्राकृत शब्दों की संगति की ओर ध्यान दिया गया है, और न तो प्रथम संस्करण की साधारण अशुद्धियाँ सुधारने की यथोचित कोशिश ही की गई है। क्या ही अचञ्छा हो, यदि श्रीआगमोदयसमितिके कार्य-कर्ताओं का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट हो और वे प्राकृत के विशेषज्ञ और परिश्रमी विद्वानों से संपादन करा कर समस्त (प्रकाशित और अप्रकाशित) आगम ग्रन्थों का एक शुद्ध (Critical) संस्करण प्रकाशित करें, जिसकी अनिवार्य आवश्यकता है।

इस तरह हस्त लिखित और मुद्रित प्राकृत-ग्रन्थ प्रायः अशुद्ध होने के कारण आवश्यकतानुसार एकाधिक हस्त-लिखित पुस्तकों का अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उन्हीं पाठों का और भिन्न भिन्न संस्करणों का सावधानी से निरीक्षण करके उनमें से शुद्ध प्राकृत शब्दों का तथा एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न परन्तु शुद्ध रूपों का ही यहाँ ग्रहण किया गया है और अशुद्ध शब्द या रूप छोड़ दिए गए हैं। और जिन ग्रन्थों की एक ही हस्त-लिखित प्रति अथवा एक मुद्रित संस्करण पाया गया है उसमें रही हुई अशुद्धियों का भी संशोधन यथामति किया गया है और संशोधित शब्दों को ही इस कोष में स्थान दिया गया है। साधारण स्थलों को छोड़ कर खास खान स्थानों में ऐसी अशुद्धियों का उल्लेख भी उन पाठों की उद्धृत करके किया गया है, जिसमें विद्वान् पाठकों को भरो की हुई शुद्धि की योग्यता या अयोग्यता पर विचार करने की सुविधा हो। इस प्रकार जैसे मूल प्राकृत शब्दों की अशुद्धियों के संशोधन में पूरी सावधानी रक्खी गई है वैसे ही आधुनिक विद्वानों की की हुई धारा (संस्कृत प्रतिशब्द) और अर्थ की भूलों को सुधारने की भी पूरी कोशिश की गई है। सारांश यह कि इस कोष को सर्वोद्देश्य-शुद्ध बनाने में सर्वोप ध्यान दिया गया है। मुझे यह जानकर सतोष हुआ है कि मेरे इस प्रयत्न की कदर भी प्रोफेसर ल्योमेन जैसे प्राकृत के सुप्रसिद्ध जगत विद्वान् तक ने की है।

१. देखो अग्रर, अलङ्कारारण्य, अगोरसन्धय, अचित्तगुणसमुदय, अजन्तविदु, अजन्तमयपरिवर्षा, अजन्तयविदु, अजन्तमयपरिवर्षा, अजन्त(?)त्यमोगसाहणुत्त, अणुगतजयपडगा प्रभृति शब्दों के रेफरेंस।
२. देखो अन्यत्र उद्धृत किए हुए इन ग्रन्थ-विषयक अभिप्रायों में रांपन एसियाटिक सोसाईटी के जर्नल में प्रकाशित प्रो. ल्युमेन का अभिप्राय।

दूसरी मुख्य कठिनाई अर्थ व्यय के बारे में थी। मेरी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि इस महान् ग्रन्थ की तय्यारी के लिए पुस्तकादि आवश्यक सामानों के और सहायक मनुष्यों के वेतन-खर्च के अतिरिक्त प्रकाशन का भार भी वहन कर सकूँ। और पुस्तक में किसी से आर्थिक सहायता लेना मैं पसन्द नहीं करता था। इससे इस कठिनाई को दूर करने के लिए अग्रिम ग्राहक बनाने की योजना की गई, जो कि मैंने उन अग्रिम ग्राहकों को हर पचीस रुपये में इस संपूर्ण ग्रन्थ की एक कॉपी देने की व्यवस्था की। इसमें मेरी उक्त कठिनाई सम्पूर्ण तो नहीं, किन्तु बहुत कुछ कम हो गई। इस योजना को इतने दूर तक सफल बनाने का अधिक श्रेय कलकत्ता के जैन श्वेताम्बर प्रोसप के अग्रणी नेता श्रीमान् सेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई को है, जिन्होंने शुरू से ही इसकी सफलता का भार अपने पर लेते हुए मुझे हर तरह से इस कार्य में सहायता की है, जिनके लिए मैं उनका चिर-कृतज्ञ हूँ। इसी तरह अहमदाबाद निवासी अद्वैत श्रीयुक्त गणपतिलालभाई प्रेमचन्द मोदी जी ए, एलएल् बो का भी मैं बहुत ही उपकृत हूँ कि जिन्होंने कई मुद्रित पुस्तकों में दो दूई पाठ्य शब्द सूचियों पर नए एकनित किया हुआ एक बड़ा शब्द संग्रह मुझे दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर प्राकृत की अनेक हस्त-लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों का जोगाड कर दिया था और उक्त योजना में ग्राहक-संख्या बढ़ाने का हादिक प्रयत्न किया था। प्रात स्मरणीय, पूज्यवाद, गुरुवर्य भुनिराल श्रीअमीचिजयजी महाराज, पूज्य जैनाचार्य श्रीविजयमोहन सुरिजी, व प्रु भट्टारक श्रीजिनचारीत्रसूरिजी तथा स्वतन्त्र-सम्पादक चिद्वर्य श्रीयुक्त अश्विनप्रसादजी वाजपेयी का भी मैं हृदय से उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरणा न अग्रिम ग्राहकों की वृद्धि द्वारा मुझे इस कार्य में सहायता मिली है। उन महानुभावों को, जिनके ग्रन्थ नाम इसी ग्रन्थ में ग्रन्थ दो हुई अग्रिम-ग्राहक-सूची में प्रकाशित किए गए हैं, अनेकानेक धन्यवाद हैं कि जिन्होंने प्रकाशक अल्पाधिक संख्या में इस पुस्तक की कॉपियाँ खरीद कर मेरा यह कार्य सरल कर दिया है। यहाँ पर मेरे मित्र श्रीयुक्त सेठ गिरधरलाल त्रिभुवनलाल और श्रीमान् बाबू डालचन्द्रा सिन्धी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों महाशयों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अथेष्ट संख्या में इस कोप की कॉपियाँ खरीदने के अतिरिक्त मुझे इस कार्य के लिये समय समय पर बिना सूद श्रद्धा देने की भी श्रुपा की थी। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि यदि उक्त सब महानुभावों की यह सहायता मुझे प्राप्त न हुई होती तो इस कोष का प्रकाशन मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, असम्भव था।

यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना उचित जान पड़ता है कि आज से करीब दस वर्ष पहले मेरे सहायक अद्वैत प्रोफेसर सुरलीधर बनर्जी ए ए महाशय ने और मैंने मिलकर एक प्रकाशक विशिष्ट पद्धति का प्राकृत इंग्लिश कोप तैयार करने के लिए कलकत्ता-विश्वविद्यालय में उपस्थित किया था, परन्तु उस समय वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके कई वर्ष बाद जब मेरे इस प्राकृत-हिन्दी कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तब उसे देखकर कलकत्ता-विश्वविद्यालय के कण्ठधार स्वर्गीय आनन्दलाल जटिल आशुतोष सुकजी इतने सतुष्ट हुए कि उन्होंने तुरत ही विश्वविद्यालय की तरफ से हम दोनों के तत्वावधान में इसी तरह के प्रमाण-युक्त एक प्राकृत इंग्लिश कोष तैयार और प्रकाशित करने का न केवल प्रस्ताव ही पास करवाया, बल्कि उसको कार्यरूप में परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी करायी है। इसके लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जायें, कम हैं। यहाँ पर मैं कलकत्ता-विश्वविद्यालय की ओर प्रथमा किप बिना नहीं रह सकता कि जिसके द्वारा मुझे इस कार्य में समय, पुस्तक आदि की अनेक सुविधाएँ मिली हैं, जिनसे यह कार्य अपेक्षा-कृत शीघ्रता से पूर्ण हो सका है। इस कोष के उपोद्घात से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ऐतिहासिक जटिल प्रश्नों को सुलझाने में अद्वैत प्रोफेसर सुरलीधर बनर्जी ए ए ने अपने कीमती समय का बिना सकीच भोग देकर मुझे जो सहायता की है उसके लिए मैं उनका अन्त-करण से आभार मानता हूँ।

इस कोप के मुद्रण-कार्य के आरम्भ से लेकर प्रायः शेष होने तक, समय समय पर जैसे जैसे जो अतिरिक्त हस्त-लिखित और मुद्रित पुस्तकें या सस्करण मुझे प्राप्त होते जाते थे वैसे वैसे उनका भी यथेष्ट उपयोग इस कोप में किया जाता था। अहाँ कारण है कि तब तक के अमुद्रित भाग के शब्द उनके रेकर्डों के साथ साथ प्रस्तुत कोप में ही यथास्थान शामिल कर दिए जाते थे और मुद्रित अंश के शब्दों का एक अलग संग्रह तय्यार किया जाता था जो परिशिष्ट के रूप में इसी ग्रन्थ में अन्वय प्रकाशित किया जाता है। ऐसा करते हुए तृतीय भाग के छपने तक चिन अतिरिक्त पुस्तकों का उपयोग किया गया था उनकी एक अलग सूची भी तृतीय भाग में दी गई थी। उसके बाद के अतिरिक्त पुस्तकों की अलग सूची इसमें न देकर प्रथम की दोनो (द्वितीय और तृतीय भाग में प्रकाशित) सूचियों की जो एक साधारण सूची यहाँ दी जाती है उसीमें उन पुस्तकों का भी वस्तुनिष्ठ से यथास्थान समावेश किया गया है, जिसमें पाठकों को अलग अलग रेकर्ड-सूचियाँ देखने की तकलीफ न हो।

उक्त परिशिष्ट में केवल उन्ही शब्दों की स्थान दिया गया है जो पूर्व-संग्रह में न आने के कारण एकदम नये हैं या आने पर भी लिंग या अर्थ में भ्रम उत्पन्न शब्दों की अपेक्षा विशेषता रखते हैं। केवल रेकर्ड की विशेषता को लेकर किसी शब्द को परिशिष्ट में पुनरावृत्ति नहीं की गई है।

१ 'अग्रिम-ग्राहक सूची' का अर्थ द्वितीय सस्करण में नहीं छापा गया है—संपादक।

२ 'परिशिष्ट' का संपूर्ण अंश इस द्वितीय सस्करण में यथास्थान समावेश कर दिया गया है—संपादक।

यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है तथापि वही एकमात्र भारतवर्ष की सर्वाधिक व्यापक और इसलिए राष्ट्र-भाषा के योग्य होने के कारण यहाँ अर्थ के लिए विशेष उपयुक्त समझी गई है ।

अन्त मे, आर्ष से लेकर अपभ्रंश तक की प्राकृत भाषाओं के विविध-विषयक जैन एवं जैनेतर प्राचीन ग्रन्थों के (जिनकी कुल संख्या ढाई सौ से भी ज्यादा है) अतिविशाल शब्द-राशि से, संस्कृत प्रतिशब्दों से, हिन्दी अर्थों से, सभी आवश्यक अवतरणों से और संपूर्ण प्रमाणों से परिपूर्ण इस बृहत् प्राकृत-कोष में, यथेष्ट सावधानता रखने पर भी, जो कुछ मनुष्य-स्वभाव-सुलभ त्रुटियाँ या भूलें हुईं हों उनको सुधारने के लिए विद्वानों से नम्र प्रार्थना करता हुआ यह आशा रखता हूँ कि वे ऐसी भूलों के विषय मे मुझे सतर्क करेंगे ताकि द्वितीयावृत्ति में तदनुसार सशोधन का कार्य सरल हो पड़े । जो विद्वान् मेरे भ्रम प्रमादों की प्रामाणिक पद्धति से सूचना देंगे, मैं उनका चिर-कृतज्ञ रहूँगा ।

यदि मेरी इस कृति से, प्राकृत-साहित्य के अभ्यास मे थोड़ी भी सहायता पहुँचेगी तो मैं अपने इस दीर्घ-काल-व्यापी परिश्रम को सफल समझूँगा ।

कलकत्ता
ता० २९-१-२८

}

हरगोविन्द दास टि. सेठ

प्रथम संस्करण का उपाद्घात

जो भाषा अतिप्राचीन काल में इस देश के आर्य लोगों की कथ्य भाषा—बोलचाल की भाषा—थी, जिस भाषा में भगवान् महावीर और बुद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धान्तों का उपदेश दिया था, जिस भाषा में जैन और बौद्ध विद्वानों ने विविध-विषयक विपुल साहित्य की रचना कर अपनाई है, जिस भाषा में श्रेष्ठ काव्य-निर्माण द्वारा प्रवरसेन हाल आदि प्राकृत किसे कहते हैं ?

महाकवियों ने अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मौलिक साहित्य के आधार पर संस्कृत के अनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना हुई है, संस्कृत के नाटक ग्रन्थों में संस्कृत-भिन्न जिस भाषा का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, जिस भाषा से भारतवर्ष की वर्तमान समस्त आर्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और जो भाषाएँ भारत के अनेक प्रदेशों में आजकल भी बोली जाती हैं, इन सब भाषाओं का साधारण नाम है प्राकृत, क्योंकि ये सब भाषाएँ एकमात्र प्राकृत के ही विभिन्न रूपान्तर हैं जो समय और स्थान की भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसीसे इन भाषाओं के व्यक्ति-वाचक नामों के आगे 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग आजकल किया जाता है, जैसे प्राथमिक प्राकृत, आर्य या अर्धमागधी प्राकृत, पाली प्राकृत, पेशाची प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृत, हिन्दी प्राकृत, बगला प्राकृत आदि।

भारतवर्ष की अर्वाचीन और प्राचीन भाषाएँ और उनका परस्पर सम्बन्ध

भाषातत्त्व के अनुसार भारतवर्ष की आधुनिक कथ्य भाषाएँ इन पाँच भागों में विभक्त की जा सकती हैं—(१) आर्य (Aryan), (२) द्राविड (Dravidian), (३) मुण्डा (Munda), (४) मन्-ख्मेर (Mon-khmer) और (५) तिब्बत-चीना (Tibeto-Chinese)

भारत की वर्तमान भाषाओं में मराठी, बंगला, ओडिया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी और काश्मीरी भाषा आर्य भाषा से उत्पन्न हुई हैं। पारसी तथा अफ्रेजी, जर्मनी आदि अनेक आधुनिक युरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी आर्य भाषा से है। भाषागत सादृश्य को देखकर भाषा-तत्त्व-ज्ञाताओं का यह अनुमान है कि इस समय विच्छिन्न और बहु-दूरवर्ती भारतीय आर्य-भाषा-भाषी समस्त जातियों और उक्त युरोपीय भाषा भाषी सकल जातियों एक ही आर्य-वंश से उत्पन्न हुई हैं।

तेलुगु, तामिल और मलयालम प्रभृति भाषाएँ द्राविड भाषा के अन्तर्गत हैं, कोल तथा सॉथाली भाषा मुण्डा भाषा के अन्तर्भूत हैं, खासी भाषा मन्ख्मेर भाषा का और भोटानी तथा नागा भाषा तिब्बत-चीना भाषा का निदर्शन हैं। इन समस्त भाषाओं की उत्पत्ति किसी आर्य भाषा से सम्बन्ध नहीं रखती, अतएव ये सभी अनार्य भाषाएँ हैं। यद्यपि ये अनार्य भाषाएँ भारत के ही दक्षिण, उत्तर और पूर्व भाग में बोली जाती हैं तथापि अफ्रेजी आदि सुदूरवर्ती भाषाओं के साथ हिन्दी आदि आर्य भाषाओं का जो वंशगत ऐक्य उपलब्ध होता है, इन अनार्य भाषाओं के साथ वह सम्बन्ध नहीं देखा जाता है।

ये सब कथ्य भाषाएँ आजकल जिस रूप में प्रचलित हैं, पूर्वकाल में उसी रूप में नहीं, क्योंकि कोई भी कथ्य भाषा कभी एक रूप में नहीं रहती। अन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी सर्वदा बदलता ही रहता है—देश, काल और करते हैं उनके द्वारा ही होता है तथापि उस समय वह लक्ष्य में नहीं आता। पूर्वकाल की भाषा के सरक्षित आदर्श के साथ तुलना करने पर वाद में ही वह जाना जाता है। प्राचीन काल की जिन भारतीय भाषाओं के आदर्श सरक्षित हैं—उसके वाद की लिपि की भाषा और प्राकृत भाषा-समूह। इनमें प्रथम की दो भाषाएँ कभी जन साधारण की कथ्य भाषा नहीं, केवल लेख्य—साहित्यिक भाषा—ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य और लेख्य उभय रूप में प्रचलित थीं। इस

समय ये समस्त भाषाएँ कथ्य रूप से व्यवहृत नहीं होतीं, इसी कारण ये मृत भाषा (dead languages) कहलाती हैं। उक्त वैदिक आदि सब भाषाएँ आर्य भाषा के अन्तर्गत हैं और इन्हीं प्राचीन आर्य भाषाओं में से कई एक क्रमशः रूपान्तरित होकर आधुनिक समस्त आर्य भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं।

ये प्राचीन आर्य भाषाएँ कौन युग में किस रूप में परिवर्तित होकर क्रमशः आधुनिक कथ्य भाषाओं में परिणत हुईं, इसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिणति-क्रम

सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी लिनिक्स्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (Linguistic survey of India) नामक पुस्तक में भारतवर्षीय समस्त आर्य भाषाओं के परिणाम का जो क्रम दिखाया है उसके अनुसार वैदिक भाषा उक्त साहित्य-भाषाओं में सर्व-प्राचीन है। इसका समय अनेक विद्वानों के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व दो हजार वर्ष (2000 F. C.) और प्रो मेक्समूलर के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व चारह सौ वर्ष (1200 B. C.) है। यह वेद-भाषा क्रमशः परिमार्जित होती हुई ब्राह्मण, उपनिषद् और यास्क के निरुक्त की भाषा में और बाद में पाणिनि-श्रुति के व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर लौकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिनि आदि के पद-श्रुति के नियम-रूप सरकारों को प्राप्त करने के कारण यह संस्कृत कहलाई। मुख्य रूप से 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग इसी भाषा के अर्थ में किया जाता है। यह संस्कृत भाषा वैदिक भाषा से उत्पन्न होने से उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने से वेद-भाषा के अर्थ में भी 'संस्कृत' शब्द बाद के समय से प्रयुक्त होने लग गया है। पाणिनि के बाद संस्कृत भाषा का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह परिवर्तन होने में—वेद-भाषा को लौकिक संस्कृत के रूप में परिणत होने में—प्रायः डेढ़ हजार वर्ष लगे हैं। पाणिनि का समय गोलडस्टुकर के मत में ख्रिस्ताब्द पूर्व सप्तम शताब्दी और बोथलिक के मत में ख्रिस्ताब्द-पूर्व चतुर्थ शताब्दी है।

यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि डॉ. हॉर्नलि और सर ग्रियर्सन के मन्तव्य के अनुसार आर्य लोगों के दो दल भिन्न-भिन्न समय में भारतवर्ष में आये थे। पहले आर्यों के एक दल ने यहाँ आकर मध्यदेश में अपने उपनिवेश की स्थापना की थी। इसके कई सौ वर्षों के बाद आर्यों के दूसरे दल ने भारत में प्रवेश कर प्रथम दल के वेद और वैदिक सभ्यता आर्यों को मध्यदेश की चारों ओर भगा कर उनके स्थान को अपने अधिकार में किया और मध्यदेश को ही अपना वास-स्थान कायम किया। उक्त विद्वानों को यह मन्तव्य इसलिए करना पड़ा है कि मध्यदेश के चारों पार्श्वों में स्थित पंजाब, सिन्ध, गुजरात, राकपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, विहार, बंगाल और उड़ीसा प्रदेशों की आधुनिक आर्य कथ्य भाषाओं में परस्पर जो निकटता देखी जाती है तथा मध्यदेश की आधुनिक हिन्दी भाषा [पाश्चात्य हिन्दी] के साथ उन सब प्रान्तों की भाषाओं में जो भेद पाया जाता है, उस निकटता और भेद का अन्य कोई कारण दिखाना असम्भव है। मध्यदेशवासी इस दूसरे दल के आर्यों का उस समय का जो साहित्य और जो सभ्यता थी उन्हीं के क्रमशः नाम हैं वेद और वैदिक सभ्यता।

1. आर्यों लोगों के आदिम वास स्थान के विषय में आधुनिक विद्वानों में गहरा मत-भेद है। कोई स्कान्डीनेविया को, कोई जर्मनी को, कोई पोलैण्ड को, कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को आर्यों की आदिम निवास-भूमि मानते हैं तो कोई-कोई पंजाब और काश्मीर को ही इनका प्रथम वसति-स्थान बतलाते हैं। किन्तु अधिकांश विद्वान् भाषा-तत्त्व के द्वारा इस सिद्धान्त पर उपनीत हुए हैं कि युरोपीय और पूर्वदेशीय आर्यों में प्रथम विच्छेद हुआ। पीछे पूर्वदेश के आर्य लोग मेसेपोटेमिया और ईरान में एक साथ रहे और एक ही देव-देवी की उपासना करते थे। उसके बाद वे भी विच्छिन्न होकर एक दल फारस में गया और अन्य दल ने अफगानिस्तान के बीच होकर भारतवर्ष में प्रवेश और निवास किया। परन्तु जैन और हिन्दू शास्त्रों के अनुसार भारतवर्ष ही चिरकाल से आर्यों का आदिम निवास-स्थान है। कोई-कोई आधुनिक विद्वान् ने पुरातत्त्व की नूतन खोज के आधार पर भारतवर्ष से ही कुछ आर्य लोगों का ईरान आदि देशों में गमन और विस्तार-त्ताम सिद्ध किया है जिमसे उक्त शास्त्रीय प्राचीन मत का समर्थन होता है।

उक्त वेद-भाषा प्राचीन होने पर भी वह वैदिक युग में जन-साधारण की कथ्य भाषा न थी, ऋषि-लोगों की साहित्य-भाषा थी। उस समय जन-साधारण में वैदिक भाषा के अनुरूप अनेक प्रादेशिक भाषाएँ (dialects) कथ्य रूप से प्रचलित थीं। इन प्रादेशिक भाषाओं में से एक ने परिमार्जित होकर वैदिक साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर वैदिक युग से प्राकृत-भाषाओं का प्रथम स्तर (ख्रिस्त-पूर्व २००० से ख्रिस्त-पूर्व ६००) का उल्लेख किया गया है उन्होंने वैदिक युग अथवा उसके पूर्व काल में अपने-अपने प्रदेशों की कथ्य भाषाओं में, दूसरे दल के भाषाओं की वेद-रचना की तरह, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी। इससे उन प्रादेशिक आर्य भाषाओं का तात्कालिक साहित्य में कोई निदर्शन न रहने से उनके प्राचीन रूपों का सपूर्ण लोप हो गया है। वैदिक काल की और इसके पूर्व की उन समस्त कथ्य भाषाओं को सर भियर्सन ने प्राथमिक प्राकृत (Primary Prakrits) नाम दिया है। यही प्राकृत भाषा-समूह का प्रथम स्तर (First stage) है। इसका समय ख्रिस्त-पूर्व २००० से ख्रिस्त-पूर्व ६०० तक का निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम स्तर की ये समस्त प्राकृत भाषाएँ स्वर और व्यञ्जन आदि के उच्चारण में तथा विभक्तियों के प्रयोग में वैदिक भाषा के अनुरूप थीं। इससे ये भाषाएँ विभक्ति-बहुल (synthetic) कही जाती हैं।

वैदिक युग में जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ कथ्य रूप से प्रचलित थीं, उनमें परिवर्ति-काल में अनेक परिवर्तन हुए जिनमें ऋ, ॠ आदि स्वरों का, शब्दों के अन्तिम व्यञ्जनों का, संयुक्त व्यञ्जनों का तथा विभक्ति और वचन-समूह का लोप या रूपान्तर मुख्य हैं। इन परिवर्तनों से ये कथ्य भाषाएँ प्रचुर परिमाण में रूपान्तरित हुईं। इस तरह द्वितीय स्तर (second stage) की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय स्तर की ये भाषाएँ जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के समय से अर्थात् ख्रिस्त-पूर्व षष्ठ शताब्दी से लेकर ख्रिस्तीय नवम या दशम शताब्दी पर्यन्त प्रचलित रहीं। भगवान् महावीर और बुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ, अपने द्वितीय स्तर के आकार में, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में कथ्य भाषा के तौर पर व्यवहृत होती थीं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं कथ्य प्राकृत भाषाओं में से एक में दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में न लिखकर कथ्य प्राकृत भाषा में लिखने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया था। इस तरह प्राकृत भाषाओं का क्रमशः साहित्य की भाषाओं में परिणत होने का सूत्रपात हुआ, जिसके फलस्वरूप पश्चिम मगध और सूरसेन देश के मध्यवर्ती प्रदेश में प्रचलित कथ्य भाषा से जैनों के धर्म-पुस्तकों की अर्ध-भागधी और पूर्व मगध में प्रचलित लोक-भाषा से बौद्ध धर्म-ग्रन्थों की पाली भाषा उत्पन्न हुई। पाली भाषा के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का जो मतभेद है उसका विचार हम आगे जा कर करेंगे। ख्रिस्ताब्द से २५० वर्ष पहले सम्राट् अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वहाँ-वहाँ की विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में खुदवाया। इन अशोक शिलालेखों में द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के असादिग्ध सर्व-प्राचीन निदर्शन संरक्षित हैं। द्वितीय स्तर के मध्य भाग में—प्रायः ख्रिस्तीय पंचम शताब्दी के पूर्व में भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इस स्तर की भाषाओं में चतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्तियों के द्विवचनों का और आख्यात की अधिकांश विभक्तियों का लोप होने पर भी विभक्तियों का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्यमान था। इससे इस स्तर की भाषाएँ भी विभक्ति-बहुल कही जाती हैं।

सर भियर्सन ने यह सिद्धान्त किया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं से, खासकर उसके शेष भाग में प्रचलित विविध अपभ्रंश भाषाओं से हुई है और आधुनिक भाषाओं को 'तृतीय प्राकृत भाषाओं का तृतीय स्तर या आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति (ख्रिस्ताब्द ६००) स्तर की प्राकृत (Tertiary Prakrits)' कह कर निर्देश किया है। इन भाषाओं की उत्पत्ति का समय ख्रिस्तीय दशम शताब्दी है। इनका साधारण लक्षण यह है कि इनमें अधिकांश विभक्तियों का लोप हुआ है, एवं भाषाओं की प्रकृति विभक्ति-बहुल न होकर विभक्तियों के बोधक स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है। इससे ये विश्लेषणीय भाषाएँ (Analytical Languages) कही जाती हैं।

जिस प्रादेशिक अपभ्रंश से जिस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण आगे 'अपभ्रंश' शीर्षक में दिया जायगा।

द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास

प्रस्तुत कोप में द्वितीय स्तर की साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इससे इन भाषाओं की उत्पत्ति और परिणति के सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है।

साधारणतः लोगों की यही धारणा है कि संस्कृत भाषा से ही द्वितीय स्तर की समस्त प्राकृत भाषाएँ और आधुनिक भारतीय भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं। कई प्राकृत-वैयाकरणों ने भी अपने प्राकृत-व्याकरणों में इसी मत का समर्थन किया है। परन्तु यह मत कहीं तक सत्य है, इसका विचार करने के पहले इन भाषाओं के भेदों को जानने की जरूरत है।

प्राकृत का संस्कृत-सापेक्ष प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के सादृश्य और पार्थक्य के अनुसार विभाग इन तीन भागों में विभक्त किए हैं—(१) तत्सम, (२) तद्भव और (३) वैश्य या देशी।

(१) जो शब्द संस्कृत और प्राकृत में बिलकुल एक रूप हैं उनको 'तत्सम' या 'संस्कृतसम' कहते हैं, जैसे—अण्वि, आगम, इच्छा, ईहा, उत्तम, कडा, एरड, भोद्धार, किञ्चर, खण्ज, गण, घटा, चित, छल, जल, भुङ्गार, टङ्गार, विन्म, ढक्का, तिमिर, दस, धवल, नीर, परिमल, फल, बहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति प्रभृति।

(२) जो शब्द संस्कृत से वर्ण-लोप, वर्णागम अथवा वर्ण-परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे 'तद्भव' अथवा 'संस्कृतभव' कहलाते हैं, जैसे—अग्र = अग्र, अयं = आरिभ, इष्ट = इष्ट, ईर्ष्या = ईर्ष्या, उग्रम = उग्रम, कृष्ण = कसण, खर्जर = खर्जर, गज = गज, घर्म = घर्म, चक्र = चक्र, क्षोभ = क्षोभ, यक्ष = जक्ष, ध्यान = भाण, दंश = डस, नाथ = शाह, त्रिदश = त्रिदश, दृष्ट = दिष्ट, धार्मिक = धर्मिभ, पश्चात् = पच्छा, स्पर्श = फंस, बदर = बोर, भार्या = भारिभा, मेघ = मेह, अरण्य = रण, देश = लेस, शेष = सेस, हृदय = ह्रिभ्र, भवति = हवद्, विवति = विशद् प्रच्छति = पुच्छद्, अकार्षीत् = अकासी, भविष्यति = होहिद् इत्यादि।

(३) जिन शब्दों का संस्कृत के साथ कुछ भी सादृश्य नहीं है—कोई भी सम्बन्ध नहीं है, उनको 'वैश्य' या 'देशी' बोला जाता है, यथा—अग्रय (दैत्य), आकाशिय (पर्यति), इराव (हस्ती), ईस (कीलक), उग्रचित (अपगत), कसम (उपमान), एलवित (घनाब्ज, वृषभ), भोडल (धर्मिभ), कंदोट (कुमुद), खुडिम (पुरत), गयसाउल (विरक्त), घड (स्तूप), चल्कर (कालिकेय), छकुई (कपिकच्छू), जच (पुरुष), भद्रप्य (शीघ्र), टका (जङ्घा), डाल (शाखा), ढडर (विशाच, ईर्ष्या), गित्तिरडिभ (युद्धित), तोमरी (चता), थमिभ (विस्तुव), दाणि (शुल्क), धणए (गृह), निवुत्त (निधित), परिभा (करोटिका), फुंड (केश-बन्ध), विट्ट (पुन), भुड (सूकर), महुा (बलात्कार), रति (भाला), लच (कुम्भट), विच्छड (समुह), सयराह (शीघ्र), हुत (अभिपुष), उय (पश्य), बुणद् (निमज्जति), खिचद् (स्पृशति), दक्षद्, निभ्रच्छद् (पश्यति), चुक्कद् (अश्यति), चोप्पद् (असाति), अहिपच्छुपद् (गृह्णाति) प्रभृति।

उपर्युक्त विभाग प्राकृत के साथ संस्कृत के सादृश्य और पार्थक्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थकारों ने प्राकृत भाषाओं का और एक विभाग किया है जो प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से सम्बन्ध रखता है। यह भौगोलिक विभाग (Geographical Classification) कहा जा सकता है। भरत-प्राकृत भाषाओं का प्रणीत कहे जाते नाट्य-शास्त्र में, सात भाषाओं को जो मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, शूरसेनी, भौगोलिक विभाग अर्धमागधी, वाहलीका और वाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में जो 'पैशाचिकी और मागधिका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काव्यादर्श में जो 'महाराष्ट्राभ्या, शौरसेनी, गौडी और लटी ये नाम दिए हैं, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शौरसेनी, पैशाची और चूलिकापैशाचिक कह कर जिन नामों का निर्देश

१ 'मागधवन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यर्धमागधी।

वाह्लीका वाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥' (नाट्यशास्त्र १७, ४८)।

२. 'पैशाचिक्या रणयोर्लनी' (प्राकृतलक्षण ३, ३८)।

३. 'मागधिकाया रसयोर्लनी' (प्राकृतलक्षण ३, ३९)।

४. 'महाराष्ट्राभ्या भाषा प्रकृत प्राणुत विदु।

नागर सूत्तिरत्ताना सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥

शौरसेनी च गौडी च लटी चान्या च तादृशी।

याति प्रकृतमित्येव ध्यवहारैषु सन्निधिम् ॥' (काव्यादर्श १, ३४ ३५)।

क्रिया है और मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका के 'कतिपय श्लोकों को उद्धृत कर महाराष्ट्री, आवन्ती, शौरसेनी, अर्धमागधी, बाह्लीकी, मागधी, प्राच्या और दक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं में द्राविड़ और ओड्डु इन दो विभाषाओं के, ग्यारह पिशाच-भाषाओं में काञ्चीदेशीय, पाण्ड्य, पाञ्चाल, गौड, मागध, त्राचड, दक्षिणात्य, शौरसेन, कैक्य और द्राविड़ इन दस पिशाच-भाषाओं के और सताईस अपभ्रंशों में त्राचड, लाट, वेदर्भ, चार्वर, आवन्त्य, पाञ्चाल, टाक, मालव, कैक्य, गौड, उड्ड, हैव, पाण्ड्य, कौन्तल, सिंहल, कालिङ्ग, प्राच्य, कार्णाट, काञ्च, द्राविड़, गौर्जर, आभीर और मध्यदेशीय इन तेईस अपभ्रंशों के जिन नामों का उल्लेख किया है वे उस भिन्न-भिन्न देश से ही संबन्ध रखते हैं जहाँ-जहाँ वह-वह भाषा उत्पन्न हुई है। पञ्चभाषाचन्द्रिका के कर्ता ने 'शूरसेन' देश में उत्पन्न भाषा शौरसेनी कही जाती है, मागध देश में उत्पन्न भाषा को मागधी कहते हैं और पिशाच-देशों की भाषा पेशाची और चूल्किपेशाची है' यह लिखते हुए यही बात अविक स्पष्ट रूप में कही है।

पूर्व में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाए हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सम शब्द संस्कृत से ही सब देशों के प्राकृतों में लिये गए हैं, दूसरे प्रकार के तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होने पर भी प्राकृत वैयाकरणों के मत से काल-क्रम से भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-भिन्न रूप को प्राप्त हुए हैं और तीसरे प्रकार के देश्य शब्द वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न देश में प्रचलित भाषाओं की प्रकृति से गृहीत हुए हैं। प्राकृत वैयाकरणों का यही मत है।

देश्य शब्द

पहले प्राकृत भाषाओं का जो भौगोलिक विभाग बताया गया है, ये तृतीय प्रकार के देशीशब्द उसी भौगोलिक विभाग से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा पंजाब और मध्यदेश में प्रचलित वैदिक काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है। पंजाब और मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों में उस समय आर्य लोगों की जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से ये देशीशब्द गृहीत हुए हैं। यही कारण है कि वैदिक और संस्कृत साहित्य में देशीशब्दों के अनुरूप कोई शब्द (प्रतिशब्द) नहीं पाया जाता है।

प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ हयात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के महाभारत, भरत के नाट्यशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में और जैनों के ज्ञातावर्मकथा, विपाकश्रुत, औपपातिकसूत्र तथा राजप्रश्नीय आदि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में भी मिलता है। इन ग्रन्थों में 'नानाभाषा', 'देशभाषा' या 'देशीभाषा' शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में ही किया गया है। चंड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जहाँ देशीप्रसिद्ध प्राकृत

१. ये श्लोक 'पेशाची' और 'अपभ्रश' के प्रकरण में दिए गए हैं।

२. 'शूरसेनोद्भवा भाषा शौरसेनीति गोयते।

मगधोत्पन्नभाषा ता मागधी सप्रचलते।

पिशाचदेशनियत पेशाचीद्वितय भवेत् ॥" (षड्भाषाचन्द्रिका, पृष्ठ २)।

३. "नानाचर्मभिराच्छन्ना नानाभाषाश्च भारत। कुशला देशभाषासु जल्पन्तोऽन्योन्यमीश्वरा" (महाभारतः शल्यपर्व ४६, १०३)।
"अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देशभाषाविकल्पमम्।"

"अथवा च्छन्दस्य कार्या देशभाषा प्रयोक्तुम्" (नाट्यशास्त्र १७, २४, ४६)।

"नात्यन्त संस्कृतेनैव नात्यन्त देशभाषया। कथा गोष्ठीषु कथयन्तोके बहुमतो भवेत्" (कामसूत्र १, ४, ५०)।

"तते ए से मेहे कुमारे अट्टारसविहम्पगारदेशीभासाविसारए होत्था", "तत्थ ए चपाए नयरीए देवदत्ता नाम गणिया परिवसइ अड्डा अट्टारसदेशीभासाविसारया" (ज्ञातावर्मकथासूत्र, पत्र ३८, ६२)।

"तत्थ ए वारिण्यगामे कामञ्जया एाम गणिया होत्था ... अट्टारसदेशीभासाविसारया" (विपाकश्रुत, पत्र २१-२२)।

"तए ए दडपत्तिएणे वारए अट्टारसदेशीभासाविसारए" (औपपातिक सूत्र, पैरा १०६)।

४. "निद्ध प्रसिद्ध प्राकृत त्रेधा त्रिप्रकारं भवति—संस्कृतयोनि, संस्कृतसम .., देशीप्रसिद्ध तन्वेदं हर्षितं = ल्हसिभ्रं" (प्राकृतलक्षण

पृष्ठ १-२)।

द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास

प्रस्तुत कोप में द्वितीय स्तर की साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इससे इन भाषाओं की उत्पत्ति और परिणति के सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है।

साधारणतः लोगों की यही धारणा है कि सस्कृत भाषा से ही द्वितीय स्तर की समस्त प्राकृत भाषाएँ और आधुनिक भारतीय भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं। कई प्राकृत-वैयाकरणों ने भी अपने प्राकृत-व्याकरणों में इसी मत का समर्थन किया है। परन्तु यह मत वहाँ तक सत्य है इसका विचार करने के पहले इन भाषाओं के भेदों को जानने की जरूरत है।

प्राकृत का सस्कृत-सापेक्ष प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं के शब्द, सस्कृत शब्दों के सादृश्य और पार्थक्य के अनुसार विभाग इन तीन भागों में विभक्त किए हैं—(१) तत्सम, (२) तद्भव और (३) देश्य या देशी।

(१) जो शब्द सस्कृत और प्राकृत में बिलकुल एक रूप हैं उनको 'तत्सम' या 'सस्कृतसम' कहते हैं, जैसे—ग्रन्थलि, भागम, इच्छा, ईहा, उत्तम, उठा, एरड, ओङ्कार, किङ्कार, खण्ज, गण, धण्डा, वित्त, छल, जल, भङ्कार, टङ्कार, डिम्म, ढक्का, तिमिर, दल, धवल, नीर, परिमल, फल, बहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति प्रभृति।

(२) जो शब्द सस्कृत से वर्ण-लोप, वर्णागम अथवा वर्ण-परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे 'तद्भव' अथवा 'सस्कृतभव' कहलाते हैं, जैसे—अग्र = अग्र, आर्य = आरिअ, इष्ट = इष्ट, ईर्ष्या = ईसा, उग्रम = उग्रम, कृष्ण = कसण, खजूर = खजूर, गज = गज, घर्म = घम्म, चक्र = चकक, क्षोभ = छोह, यक्ष = जकख, ध्यान = भाण, दश = डस, नाथ = लाह, त्रिदश = तिमस, दृष्ट = दिष्ट, धार्मिक = धम्मिअ, पश्चात् = पच्छा, स्पर्श = फस, बदर = बोर, भार्या = भारिआ, मेघ = मेह, अरण्य = रण्य, लेश = लेस, शेष = सेस, हृदय = हिअम, भवति = हवइ, पिवति = पिअइ पुच्छति = पुच्छइ, अकार्षीत् = अकासी, अविष्यति = होहिइ इत्यादि।

(३) जिन शब्दों का सस्कृत के साथ कुछ भी सादृश्य नहीं है—कोई भी सम्बन्ध नहीं है, उनको 'देश्य' या 'देशी' बोला जाता है, यथा—अगय (दैत्य), आकासिय (पर्याप्त), इराव (हस्ती), ईस (कीलक), उअचित (अपगत), ऊसअ (उपधान), एलविल (घनाब्ज, वृषभ), ओडल (वम्मिल्ल), कदोट्ट (कुमुद), खुड्डिम (सुरत), गयसाजल (विरक्त), घढ (स्तूप), चउक्कर (कार्तिकेय), छकुई (कपिकच्छू), जच (पुरुष), भडप्प (शोभ), टका (जङ्घा), डाल (शाखा), ढढर (पिशाच, ईर्ष्या), गित्तिरडिअ (श्रुति), तोमरी (लता), थमिअ (विस्मृत), वाणि (शुल्क), धयण (गृह), निववुत्त (निवृत्त), परिणआ (करोटिका), फुंटा (केश-बन्ध), विट्ट (पुत्र), भुड (सूकर), मड्डा (बलात्कार), रति (आज्ञा), लच (कुक्कुट), विच्छइ (समूह), सयराह (शोभ), हुत्त (अभिमुख), उअ (पश्य), खुप्पइ (निमज्जति), छिवइ (स्पृशति), देखइ, निअअइ (पश्यति), खुक्कइ (भ्रश्यति), चोप्पइ (जसति), अहिपच्छुअइ (गृह्णाति) प्रभृति।

उपर्युक्त विभाग प्राकृत के साथ सस्कृत के सादृश्य और पार्थक्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके सिवा सस्कृत और प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थकारों ने प्राकृत भाषाओं का और एक विभाग किया है जो प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से सम्बन्ध रखता है। यह भौगोलिक विभाग (Neogeographical Classification) कहा जा सकता है। भरत प्राकृत भाषाओं का प्रणीत कहे जाते नाट्य-शास्त्र में, सात भाषाओं को जो मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, सूरसेनी, भौगोलिक विभाग अर्धमागधी, वाहलीका और दाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में जो पैशाचिकी और मागधिका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काव्यादर्श में जो महाराष्ट्राश्रया, शौरसेनी, गौडी और लाटी ये नाम दिए हैं, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शौरसेनी, पैशाची और चूलिमापैशाचिक कह कर जिन नामों का निर्देश

- १ "मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्धमागधी।
वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥" (नाट्यशास्त्र १७, ४८)।
- २ "पैशाचिक्या रणयोर्लनी" (प्राकृतलक्षण ३, ३८)।
- ३ "मागधिकाया रसयोर्लशी" (प्राकृतलक्षण ३, ३६)।
- ४ 'महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्टं प्राकृत विदुः।
सागर सूक्तिरत्नाना सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥
शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च तादृशी।
याति प्रकृतमित्येव व्यवहारेषु सान्निधम् ॥" (काव्यादर्श १, ३४-३५)।

किया है और मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका के कतिपय श्लोकों को उद्धृत कर महाराष्ट्री, आवन्ती, शौरसेनी, अर्धमागधी, बाह्लीकी, मागधी, प्राच्या और दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं में द्राविड और ओड्डज इन दो विभाषाओं के, ग्यारह पिशाच-भाषाओं में काञ्चीदेशीय, पाण्ड्य, पाञ्चाल, गौड, मागध, ब्राचड, दाक्षिणात्य, शौरसेन, कैकय और द्राविड इन दस पिशाच-भाषाओं के और सताईस अपभ्रंशों में ब्राचड, लाट, वेदर्भ, वाचर, आवन्त्य, पाञ्चाल, टाक, मालव, कैकय, गौड, उड्ड, हैव, पाण्ड्य, कौन्तल, सिंहल, कालिङ्ग, प्राच्य, काणाट, काञ्च, द्राविड, गौर्जर, आभीर और मध्यदेशीय इन तेईस अपभ्रंशों के जिन नामों का उल्लेख किया है वे उस भिन्न-भिन्न देश से ही संबन्ध रखते हैं जहाँ-जहाँ वह-वह भाषा उत्पन्न हुई है। पञ्चभाषाचन्द्रिका के कर्ता ने 'शूरसेन' देश में उत्पन्न भाषा शौरसेनी कही जाती है, मगध देश में उत्पन्न भाषा को मागधी कहते हैं और पिशाच-देशों की भाषा पैशाची और चूलिमापैशाची है यह लिखते हुए यही बात अविक स्पष्ट रूप में कही है।

पूर्व में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाए हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सम शब्द संस्कृत से ही सब देशों के प्राकृतों में लिये गए हैं, दूसरे प्रकार के तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होने पर भी प्राकृत वैयाकरणों के मत से कालक्रम से भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-भिन्न रूप को प्राप्त हुए हैं और तीसरे प्रकार के देश्य शब्द वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न देश में प्रचलित भाषाओं से गृहीत हुए हैं। प्राकृत वैयाकरणों का यही मत है।

देश्य शब्द

पहले प्राकृत भाषाओं का जो भौगोलिक विभाग बताया गया है, ये उनीय प्रकार के देशीशब्द उसी भौगोलिक विभाग से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषा पंजाब और मध्यदेश में प्रचलित वैदिक मूल काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है। पंजाब और मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों में उस समय आर्य लोगों की जो प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं उन्हीं से ये देशीशब्द गृहीत हुए हैं। यही कारण है कि वैदिक और संस्कृत साहित्य में देशीशब्दों के अनुरूप कोई शब्द (प्रतिशब्द) नहीं पाया जाता है।

प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ हयात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के महाभारत, भरत के नाट्यशास्त्र और वात्स्यायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में और जैनों के ज्ञातावर्मकथा, विपाकश्रुत, औपपातिकसूत्र तथा राजप्रश्नीय आदि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में भी मिलता है। इन ग्रन्थों में 'नानाभाषा', 'देशभाषा' या 'देशीभाषा' शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में ही किया गया है। चंड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जहाँ देशीप्रसिद्ध प्राकृत

१. ये श्लोक 'पैशाची' और 'अपभ्रंश' के प्रकरण में दिए गए हैं।

२. 'शूरसेनोद्भवा भाषा शौरसेनीति गीयते।

मगधोत्पन्नभाषा ता मागधी सप्रचक्षते।

पिशाचदेशनियत पैशाचीद्वितय भवेत् ॥" (पञ्चभाषाचन्द्रिका, पृष्ठ २)।

३. "नानावर्मभिराच्छन्ना नानाभाषाश्च भारत। कुशला देशभाषासु नल्पन्तोऽन्योन्यमीश्वरा" (महाभारत, शल्यपर्व ४६, १०३)।
"अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि देशभाषाविकल्पनम्।"

"अथवा च्छन्दत कार्या देशभाषा प्रयोक्तुमि" (नाट्यशास्त्र १७, २४, ४६)।

"नात्यन्त संस्कृतेनैव नात्यन्त देशभाषया। कथा गोष्ठीषु कथयन्तीके बहुमतो भवेत्" (कामसूत्र १, ४, ५०)।

"तते ए स मेहे कुमारे अट्टारसविह्विष्णुगारदेशोभासाविसारए होत्या", "तत्थ ए चपाए नयरीए देवदत्ता नाम गणिया

परिवसह अड्डा अट्टारसदेसीभासाविसारया" (ज्ञातावर्मकथासूत्र, पत्र ३८, ६२)।

"तत्थ ए वाणियगामे कामञ्छया एाम गणिया होत्या ... अट्टारसदेसीभासाविसारया" (विपाकश्रुत, पत्र २१-२२)।

"तए ए दढपतिण्णे दारए . अट्टारसदेसीभासाविसारए" (श्रीपपातिक सूत्र, पत्रा १०६)।

"तए ए से दढपतिण्णे दारए . अट्टारसविह्वेसिप्पगारभासाविसारए" (राजप्रश्नीयसूत्र, पत्र १४८)।

४. "निद्ध प्रसिद्ध प्राकृत त्रेधा विप्रकार भवति—संस्कृतयोनि, संस्कृतसम .., देशीप्रसिद्ध तच्चेदं हविर्त = त्हासिप्र" (प्राकृतलक्षण

पृष्ठ १-२)।

का उल्लेख किया है वहाँ भी देशी शब्द का अर्थ देशीभाषा ही है। ये सब देशी या प्रादेशिक भाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निवासी आर्य लोगों की ही कथ्य भाषाएँ थीं। इन भाषाओं का पञ्जाब और मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अश्यों में जैसे सादृश्य था वैसे किसी किसी अश में भेद भी था। जिस जिस अश में इन भाषाओं का पञ्जाब और मध्य देशों की प्राकृत भाषा के साथ भेद था उसमें से जिन भिन्न-भिन्न नामों ने और धातुओं ने प्राकृतसाहित्य में स्थान पाया है ही है प्राकृत के देशी वा देश्य शब्द।

प्राकृत-वैयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दों में अनेक नाम और धातुओं को संस्कृत नामों के और धातुओं के स्थान में आदेश-द्वारा सिद्ध करके तद्भव-विभाग में अन्तर्गत किए हैं^१। यही कारण है कि आचार्य हेमचन्द्र ने अप देशीनाममाला में केवल देशी नामों का ही संग्रह किया है और देशी धातुओं का अपने प्राकृत-व्याकरण में संस्कृत धातुओं के आदेश-रूप में उल्लेख किया है, यद्यपि आचार्य हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती कई वैयाकरणों ने इनकी गणना देशी धातुओं में की है^२। ये सब नाम और धातु संस्कृत के नाम और धातुओं के आदेश-रूप में निष्पन्न करने पर भी तद्भव नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत के साथ इनका कुछ भी सादृश्य नहीं है।

कोई कोई पाश्चात्य भाषातत्त्वज्ञ का यह मत है कि उक्त देशी शब्द और धातु भिन्न-भिन्न देशों की द्राविड़, मुण्ड आदि अनार्य भाषाओं से लिए गए हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक अनार्य भाषाओं में इन देशी शब्दों और देशी-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना असंगत नहीं है। किन्तु जबतक यह प्रमाणित नहीं कि 'ये देशी शब्द और धातु वर्तमान अनार्य भाषाओं में प्रचलित हैं', तबतक 'ये देशी शब्द और धातु-प्रादेशिक भाषाओं से ही गृहीत हुए हैं' यह कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है। इन अनार्य भाषाओं में दो-एक देश्य शब्द और धातु प्रचलित होने पर भी 'वे अनार्य भाषाओं से ही प्राकृत भाषाओं में लिए गए हैं' यह अनुमान न कर 'प्राकृत भाषाओं से ही वे देश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं में गए हैं' यह अनुमान किया जा सकता है। हाँ, जहाँ ऐसा अनुमान करना असंभव हो वहाँ हम यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे कि 'ये देश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं से ही प्राकृत में लिए गए हैं, क्योंकि आर्य और अनार्य ये उभय जातियाँ जब एक स्थान में मिश्रित हो गई हैं तब कोई कोई अनार्य शब्द और धातु का आर्य भाषाओं में प्रवेश करना असंभव नहीं है।

डॉ. काल्डवेल (Caldwell) प्रभृति के मत में वैदिक और लौकिक संस्कृत में भी अनेक शब्द द्राविडीय भाषाओं से गृहीत हुए हैं। यह बात भी सदिग्ध ही है, क्योंकि द्राविडीय भाषा के जिस साहित्य में ये सब शब्द पाये जाते हैं वे वैदिक संस्कृत के साहित्य से प्राचीन नहीं हैं। इससे 'वैदिक साहित्य में ये सब शब्द द्राविडीय भाषा से गृहीत हुए हैं' इस अनुमान की अपेक्षा 'आर्य लोगों की भाषा से ही अनार्यों की भाषा में ये सब शब्द लिए गए हैं' यह अनुमान विशेष ठीक मालूम पड़ता है।

जिन प्रादेशिक देशी-भाषाओं से ये सब देशी शब्द प्राकृत-साहित्य में गृहीत हुए हैं वे पूर्वोक्त प्रथम स्तर के प्राकृत भाषाओं के अन्तर्गत और उनकी समसामयिक हैं। ख्रिस्त-पूर्व षष्ठ शताब्दी के पहले ये देशीभाषाएँ प्रचलित थीं, इससे ये देश्य शब्द अर्वाचीन नहीं, किन्तु उतने ही प्राचीन हैं जितने कि वैदिक शब्द।

द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति—वैदिक या लौकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु

प्रथम स्तर की प्राकृतों से

प्राकृत के वैयाकरण-गण प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति में प्रकृति शब्द का अर्थ संस्कृत करते हुए प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति लौकिक संस्कृत से मानते हैं। संस्कृत के कई अलंकार शास्त्रों के टीकाकारों ने भी तद्भव और तत्सम शब्दों में स्थित

१. देखो हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६, १३८, १४१, १७४ वगैरह सूत्र और चतुर्थ पाद के २, ३, ४, ५, १०, ११, १२ प्रभृति सूत्र।

२. 'एते चान्यदेशीषु पठिता अपि अस्माभिर्षात्वादेशीकृता' (हे० प्रा० ४, २), अर्थात् अन्य विद्वानों ने वज्जर, पज्जर, उप्पाल प्रभृति धातुओं का पाठ देशी में किया है, तो भी हमने संस्कृत धातु के आदेश-रूप से ही ये यही बताए हैं।

'तत्' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत से लगाकर इस मत का अनुसरण किया है^१। कतिपय प्राकृत-व्याकरणों में प्राकृत शब्द को व्युत्पत्ति इस तरह की गई है —

'प्रकृति संस्कृतः तत्र भवं तत् प्रागतं वा प्राकृतम्' (हेमचन्द्र प्रा० व्या०)।

'प्रकृति संस्कृतं तत्र भव प्राकृतमुच्यते' (प्राकृतसर्वस्व)।

'प्रकृति संस्कृत तत्र भवत्वात् प्राकृत स्मृतम्' (प्राकृतचन्द्रिका)।

'प्रकृते संस्कृतायास्तु विकृति प्राकृतो मता' (षड्भाषाचन्द्रिका)।

'प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनि' (प्राकृतसजीवनी)।

इन व्युत्पत्तियों का तात्पर्य यह है कि प्राकृत शब्द 'प्रकृति' शब्द से बना है, 'प्रकृति' का अर्थ है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है प्राकृत भाषा।

प्राकृत वैयाकरणों की प्राकृत शब्द की यह व्याख्या अप्रामाणिक और अव्यापक ही नहीं है, भाषा-तत्त्व से असंगत भी है। अप्रामाणिक इसलिए कही जा सकती है कि प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ संस्कृत भाषा कभी नहीं होता—संस्कृत के किसी कोप में प्राकृत शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है^२ और गौण या लाक्षणिक अर्थ तबतक नहीं लिया जाता जबतक मुख्य अर्थ में बाध न हो। यहाँ प्रकृति शब्द के मुख्य अर्थ स्वभाव अथवा जन साधारण लेने में किसी तरह का बाध भी नहीं है। इससे उक्त व्युत्पत्ति के स्थान में 'प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतम्' अथवा 'प्रकृतीना साधारणजनानामिदं प्राकृतम्' यही व्युत्पत्ति संगत और प्रामाणिक हो सकती है। अव्यापक कहने का कारण यह है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रकारों में तत्सम और तद्भव शब्दों की ही प्रकृति उन्हीं संस्कृत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं, अथच देश्य को भी प्राकृत कहा है। इससे देश्य प्राकृत में वह व्युत्पत्ति लागू नहीं होती। प्राकृत की संस्कृत से उत्पत्ति भाषा-तत्त्व के सिद्धान्त से भी संगत नहीं रखती, क्योंकि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये दोनों ही साहित्य की मार्जित भाषाएँ हैं। इन दोनों भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता है। अशिक्षित, अज्ञ और बालक लोग किसी काल में साहित्य की भाषा का न तो स्वयं व्यवहार कर सकते हैं और न समझ ही पाते हैं। इसलिए समस्त देशों में सर्वदा ही अशिक्षित लोगों के व्यवहार के लिए एक कथ्य भाषा चालू रहती है जो साहित्य की भाषा से स्वतन्त्र—अलग होती है। शिक्षित लोगों को भी अशिक्षित लोगों के साथ बातचीत के प्रसंग में इस कथ्य भाषा का ही व्यवहार करना पड़ता है। वैदिक समय में भी ऐसी कथ्य भाषा प्रचलित थी। और जिस समय लौकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस समय भी साधारण लोगों की स्वतन्त्र कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह नाट्य आदि में संस्कृत भाषा के साथ प्राकृत-भाषी पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित होता है।

पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो लौकिक भाषा कही है और पतञ्जलि ने इसको जो शिष्ट-भाषा का नाम दिया है, उसका मतलब यह नहीं है कि उस समय प्राकृत भाषा थी ही नहीं, परन्तु उसका अर्थ यह है कि उस समय के शिक्षित लोगों के आपस के वार्तालाप में, वर्तमान काल के परिदृष्ट लोगों में संस्कृत की तरह और भिन्नदेशीय लोगों के साथ के व्यवहार Lingua Franca की माफिक संस्कृत भाषा व्यवहृत होती थी। किन्तु बालक, रित्रियों और अशिक्षित लोग अपनी मातृ-भाषा में बातचीत करते थे जो संस्कृत-भिन्न साधारण कथ्य भाषा थी। साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी काल में साहित्य की भाषा से गृहीत नहीं होती, वल्कि साहित्य-भाषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से उत्पन्न होती है। इसलिए 'संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है' इसकी अपेक्षा 'क्या तो वैदिक संस्कृत और क्या लौकिक संस्कृत दोनों ही उस समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई हैं' यही सिद्धान्त विशेष युक्ति संगत है। आजकल के भाषा तत्त्वज्ञों में इसी सिद्धान्त का अधिक आदर देखा जाता है। यह सिद्धान्त पश्चात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के

१ 'प्रकृते संस्कृतादागतं प्राकृतम्' (वाग्भट्टशतकटीका २, २), 'संस्कृतरूपायाः प्रकृतेः स्मृतत्वात् प्राकृतम्' (काव्यादर्श की प्रेमचन्द्र-तर्कवागीश कृत टीका १, ३३)।

२ 'प्रकृतिर्योनिशिल्पिनो । पौरमात्यादिदिल्लिषु गुणसाम्यस्वभावयो । प्रत्यात् पूर्विकाया च' (अनेकार्थसंग्रह ८७६-७)।

३ 'स्वाम्यभाष्य सुहृत्कोशो राष्ट्रदुर्गवलानि च ।
राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणा श्रेणयोऽपि च ॥ (प्रभिवानचिन्तामणि ३, ३७८)।

'यत् कात्य —ग्रमात्याद्याव पौराथ्य सदिम प्रकृतय स्मृता' (अ० वि० ३, ३७८ की टीका)।

४ कोई कोई प्राथमिक विद्वान् प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानते हैं, देखो 'पाली-प्रकाश' का प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६।

ही प्राचीन भाषातत्त्वज्ञो मे भी यह मत प्रचलित था यह निम्नोद्धृत कतिपय प्राचीन ग्रन्थों के अवतरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। रुद्रट-कृत काव्यालङ्कार के एक श्लोक की व्याख्या मे ख्रिस्त की ग्यारहवीं शताब्दी के जैन-विद्वान् नमिसाधु ने लिखा है कि—

“प्राकृतेति । सकलजगज्जन्तूना व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार सहजो वचनव्यापार प्रकृति, तत्र भवसेव वा प्राकृतम् । भारि सवयणे सिद्धं देवाणं अद्वयगणहा वाणी” इत्यादिवचनाद् वा प्राक् पूर्वं कृतं प्राक्कृतं बाल-महिलादि-सुबोध सकलभाषानिवन्धनभूत वचनमुच्यते । मेघनिघण्टुकजलमिवैकस्वरूप तदेव च देशविशेषात् संस्कारकरणाच्च समासादितविशेष सत् संस्कृताद्युत्तरविभेदान्मोति । अत एव शाक्यकृत प्राकृतमादौ निर्दिष्ट तदनु संस्कृतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणैः संस्कारणात् संस्कृतमुच्यते ।”

इस व्याख्या का तात्पर्य यह है कि—‘प्रकृति’ शब्द का अर्थ है लोगो का व्याकरण आदि के संस्कारो से रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न अथवा वही है प्राकृत । अथवा ‘प्राक् कृत’ पर से प्राकृत शब्द बना है, ‘प्राक् कृत’ का अर्थ है ‘पहले किया गया’ । वारह अण-ग्रन्थो मे ग्यारह अण ग्रन्थ पहले किए गए हैं और इन ग्यारह अण-ग्रन्थो की भाषा आप वचन मे—सूत्र मे अर्धमागधी कही गई है^२ । बालक, महिला आदि को सुबोध—सहज-गम्य है^३ और जो सकल भाषाओ का मूल है । यह अर्धमागधी भाषा ही प्राकृत है । यही प्राकृत मेघ-मुक्त जल की तरह, पहले एक रूपवाला होने पर भी, देश-भेद से और संस्कार करने से भिन्नता को प्राप्त करता हुआ संस्कृत आश्वान्तर विभेदो मे परिणत हुआ है अर्थात् अर्धमागधी प्राकृत से संस्कृत और अन्यान्य प्राकृत भाषाओ की उत्पत्ति हुई है । इसी कारण मूल ग्रन्थकार (रुद्रट) ने प्राकृत का पहले और संस्कृत आदि बाद मे निर्देश किया है । पाणिन्यादि व्याकरणो मे बताए हुए नियमों अनुसार संस्कार पाने के कारण संस्कृत कहलाती है ।

‘अकृत्रिमस्वादुपदैर्जन जन जिनेन्द्र साक्षादिव पांसि भाषिते’ (द्वानिशद्द्वानिशिका १, १८) ।

“अकृत्रिमस्वादुपदा जैनी वाचमुपास्महे ।” (हेमचन्द्रकाव्यानुशासन, पृष्ठ १) ।

उक्त पद्यों मे ब्रह्मशा महाकवि सिद्धसेन दिवाकर और आचार्य हेमचन्द्र जैसे समर्थ विद्वानों का जिनदेव की वाणी को ‘अकृत्रिम’ और संस्कृत भाषा को ‘कृत्रिम’ कहने का भी रहस्य यही है कि प्राकृत जन साधारण की मातृ-भाषा होने के कारण अकृत्रिम—स्वाभाविक है और संस्कृत भाषा व्याकरण के संस्कार-रूप बनावटीपन से पूर्ण होने के हेतु कृत्रिम है ।

१. “प्राकृतसंस्कृतभागषपिशाचभाषाश्च शौरसेनी च ।

षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपञ्चश ॥” (काव्यालकार २, १२) ।

२. वारहवां अण-ग्रन्थ, जिसका नाम दृष्टिवाद है और जिसमे चौदह पूर्व (प्रकरण) थे, संस्कृत भाषा मे था । यह बहुत काल से दुष्ट । गया है । यद्यपि इसके विषयो का सक्षिप्त वर्णन समवायाङ्गसूत्र मे है ।

“चतुदशापि पूर्वाणि संस्कृतानि पुराऽभवन् ॥११४॥

प्रज्ञातिशयसाध्यानि तान्युच्छिन्नानि कालत । अधुनैकादशाङ्गयस्ति सुधर्मस्वामिभाषिता ॥११५॥

बालजीमूढमूर्खादिजनानुग्रहणाय स । प्राकृता तामिहाकार्षीत्” (प्रभावकचरित्र, पृ० ६८-६९) ।

३. “मुत्तुण दिट्ठिवाय कालियउकालियगसिद्ध तं । थीबालवयणएत्थ पाययमुद्दय जिणवरहे ॥”

(आचारदिनकर मे उद्धृत प्राचीन गाथा) ।

“बालजीमन्वमूर्खाणा नृणा चारित्रकाक्षिणाम् । अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तं प्राकृतं कृत ॥”

(दशवैकालिक टीका पत्र १०० मे हरिभद्रसूरि द्वारा और काव्यानुशासन की टीका पृ० १ में आचार्य हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत किया हुआ प्राचीन श्लोक) ।

४. “अकृत्रिमाणि—असंस्कृतानि, अत एव स्वादूनि मन्दविषयामपि पेशलानि पदानि यस्यामिति विग्रह” (काव्यानुशासनटीका) । आप हेमचन्द्र की ‘अकृत्रिम’ शब्द की इस स्पष्ट व्याख्या से प्रतीत होता है कि उनका अपने प्राकृत-व्याकरण मे प्राकृत की प्रकृति सर्व कहना सिद्धान्त-निरूपण के लक्ष्य से नहीं, परन्तु अपने प्राकृत-व्याकरण की रचना शैली के उपलक्ष मे है, क्योंकि सभी उपलक्ष प्राकृत-व्याकरणो की तरह हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण मे भी संस्कृत पर से ही प्राकृत-शिक्षा की पद्धति अवलम्बित की गई है^४ । इस पद्धति में प्रकृति—मूल के स्थान मे संस्कृत को रखना अनिवार्य हो जाता है । अथवा यह भी असम्भव नहीं है कि व्याकरण रचना के समय उनका यही सिद्धान्त रहा हो जो बाद मे बदल गया हो और इस परिवर्तित सिद्धान्त का काव्यानुशासन में प्रतीपादन किया हो । काव्यानुशासन की रचना व्याकरण के बाद उन्होंने की है यह काव्यानुशासन की “शब्दानुशासने” साध्यो वाचो विवेचिता” (पृष्ठ २) इस उक्ति से ही सिद्ध है ।

केवल जैन विद्वानों में ही यह मत प्रचलित न था, ख्रिस्त की आठवीं शताब्दी के जैनैतर महाकवि वाक्पतिराज ने भी अपने 'गुडडवहो' नामक महाकाव्य में इसी मत को इन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है—

“सयलाग्रो इम वाया विसति एतो य एँति वायाग्रो ।

एति समुद् चिय एँति सागराग्रो चिय जलाद् ॥६३॥”

अर्थात् इसी प्राकृत भाषा में सब भाषाएँ प्रवेश करती हैं और इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषाएँ निर्गत हुई हैं, जल (ग्रा कर) समुद्र में ही प्रवेश करता है और समुद्र से ही (वाष्प रूप से) बाहर होता है। वाक्पति के इस पद्य का मर्म यही है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, बल्कि संस्कृत आदि सब भाषाएँ प्राकृत से ही उत्पन्न हुई हैं।

ख्रिस्त की नवम शताब्दी के जैनैतर कवि राजशेखर ने भी अपने 'वालरामायण' में नीचे का श्लोक लिखकर यही मत प्रकट किया है—

“यद् योनि किल संस्कृतस्य मुद्रशा जिह्वासु यन्मोदते, यत्र श्रोत्रपथावतारिणि कटुर्भाषाक्षराणा रस ।

यद्य ब्रह्मपद पद रतिपतेस्तद् प्राकृत यद्वचस्तत्त्वाटोल्ललिताङ्गि पश्य नुवती हृष्टेनिमेषत्रय ॥” (४८, ४९) ।

जैन और जैनैतर विद्वानों के उक्त वचनों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के भारतीय भाषातत्त्वज्ञों में भी यह मत प्रबल रूप से प्रचलित था कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से नहीं है।

प्राकृत भाषा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है इसका और भी एक प्रमाण है। वह यह कि प्राकृत के अनेक शब्द और प्रत्ययों का लौकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक भाषा के साथ अधिक मेल देखने में आता है। प्राकृत भाषा साक्षात् रूप से लौकिक संस्कृत से उत्पन्न होने पर यह कभी संभव नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी प्राकृत के अनुरूप अनेक शब्द और प्रत्ययों के प्रयोग विद्यमान हैं। इससे यह अनुमान करना किसी तरह असंगत नहीं है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत ये दोनों ही एक प्राचीन प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं और यही इस सादृश्य का कारण है। वैदिक भाषा और प्राकृत के सादृश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्धृत करते हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं हो सके।

वैदिक भाषा और प्राकृत में सादृश्य

१ प्राकृत में अनेक जगह संस्कृत ऋकार के स्थान में उकार होता है, जैसे—वृन्द = वुन्द, ऋतु = उत, पृथिवी = पुहवी, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जैसे—कृत् = कुठ (ऋग्वेद १, ४६, ४) ।

२ प्राकृत में सयुक्त वर्णवाले कई स्थानों में एक व्यञ्जन का लोप होकर पूर्व के ह्रस्व स्वर का दीर्घ होता है, जैसे—दुर्लभ = दूल्ह, विश्राम = वीसाम, स्पर्श = फास, वैदिक भाषा में भी वैसा होता है, यथा—दुर्लभ = दूल्भ (ऋग्वेद ४, ६, ८), दुर्गाश = दूणाश (शुक्लयजु प्रातिशाख्य ३, ४३) ।

३ संस्कृत व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्त्य व्यञ्जन का प्राकृत में सर्वत्र लोप होता है, जैसे—तावत् = ताव, यशस् = जस, वैदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा—पश्चात् = पश्चा (अथर्वसंहिता १०, ४, ११), उच्चात् = उच्चा (तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४), नीचात् = नीचा (तैत्तिरीयसंहिता १, २, १४) ।

४ प्राकृत में सयुक्त र और य का लोप होता है, जैसे—प्रगल्भ = पगल्भ, श्यामा = सामा, वैदिक साहित्य में भी यह पाया जाता है, यथा—अ-प्रगल्भ = अ-पगल्भ (तैत्तिरीयसंहिता ४, ५, ६१), त्र्यच = त्रिच (शतपथब्राह्मण १, ३, ३, ३३) ।

५ प्राकृत में सयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर ह्रस्व होता है, यथा—पात्र = पत्र, रात्रि = रन्ति, साध्य = सञ्ज इत्यादि, वैदिक भाषा में भी ऐसे प्रयोग हैं, जैसे—रोदसीप्रा = रोदसिप्रा (ऋग्वेद १०, ८८, १०), अमात्र = अमत्र (ऋग्वेद ३, ३६, ४) ।

६ प्राकृत में संस्कृत द का अनेक जगह ड होता है, जैसे—दण्ड = डण्ड, दंस = डंस, दोला = डोला, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुर्लभ नहीं हैं, जैसे—दुर्दभ = दूडभ (वाजसनेयसंहिता ३, ३६), पुरोदास = पुरोडाश (शुक्ल-यजु प्रातिशाख्य ३, ४४) ।

१ सकला इद वाचो विशन्तीतरव निर्यन्ति वाच । आयन्ति समुद्रमेव निर्यन्ति सागरादेव जलानि ॥६३॥

७. प्राकृत में व का ह होता है, यथा—बधिर = बहिर, व्याव = वाह, वेद-भाषा में भी ऐसा पाया जाता है, जैसे—प्रतिसघाय = प्रतिसहाय (गोपब्रह्मण २, ४) ।

८ प्राकृत में अनेक शब्दों में सयुक्त व्यञ्जनों के बाव में स्वर का आगम होता है, जैसे—क्लिष्ट = क्लिष्ट, स्व = सुव, तन्वी = तणुवी, वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरल नहीं हैं, यथा—सहस्य = सहास्य, स्वर्ग = सुवर्ग (तैत्तिरीयसंहिता ४, २, ३), तन्व. = तनुव, स्व = सुव (तैत्तिरीयभारण्यक ७ २२, १, ६, २, ७) ।

९ प्राकृत में अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द के प्रथमा के एकवचन में ओ होता है, जैसे—देवो, जिणो, सो इत्यादि, वैदिक भाषा में भी प्रथमा के एऊवचन में कहीं-कहीं ओ देखा जाता है यथा—सवत्सरो अजायत (ऋग्वेदसंहिता १०, १६०, २), सो चित् (ऋग्वेदसंहिता १, १६१, १०-११) ।

१०. तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्राकृत में देव आदि अकारान्त शब्दों के रूप देवेहे, गभीरेहि, जेट्टेहि आदि होते हैं, वैदिक साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेभि, गम्भीरेभि., ज्येष्ठेभि आदि रूप मिलते हैं ।

११ प्राकृत की तरह वैदिक भाषा में भी चतुर्था के स्थान में षष्ठी विभक्ति होती है ।

१२. प्राकृत में पञ्चमो के एकवचन में देवा, वच्छा, जिगा आदि रूप होते हैं, वैदिक साहित्य में भी इसी तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रभृति उपलब्ध होते हैं ।

१३ प्राकृत में द्विवचन के स्थान में बहुवचन ही होता है वैदिक भाषा में भी इस तरह के अनेकों प्रयोग मौजूद हैं, यथा—‘इन्द्रावरुणौ’ के स्थान में ‘इन्द्रावरुणा’, ‘मित्रावरुणौ’ का जगह ‘मित्रावरुणा’, ‘यौ सुरथौ राथतमौ दिविस्पृशावश्विनौ’ के बदले ‘या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा आश्वना’ ‘नरौ हे’ के स्थल में ‘नरा हे’ आदि ।

इस तरह अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह साबित होता है कि प्राकृत की उत्पत्ति वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा से पूर्व में कही गई है उसीसे हुई है । इससे यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि संस्कृत के अनेक आलंकारिकों ने और प्राकृत के प्रायः समस्त वैयाकरणों ने ‘तत्’ शब्द से संस्कृत को लेकर ‘तद्भव’ शब्द का जो व्यवहार ‘संस्कृतभव’ अर्थ में किया है वह किसी तरह सगत नहीं हो सकता । इसलिए वहाँ ‘तत्’ शब्द से संस्कृत के स्थान में वैदिक काल के प्राकृत का ग्रहण कर ‘तद्भव’ शब्द का प्रयोग ‘वैदिक काल के प्राकृत से जो शब्द संस्कृत में लिया गया है उससे उत्पन्न’ इसी अर्थ में करना चाहिए । संस्कृत शब्द और प्राकृत तद्भव शब्द इन दोनों का साधारण मूल वैदिक काल का प्राकृत अर्थात् पूर्वोक्त प्राथमिक प्राकृत या प्रथम स्तर का प्राकृत है । इससे जहाँ पर ‘तद्भव’ शब्द का सैद्धान्तिक अर्थ ‘संस्कृतभव’ नहीं, किन्तु ‘वैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न’ यही समझना चाहिए ।

द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम और उनके प्रधान भेद

जब उपर्युक्त कथन के अनुसार वैदिक तथा लौकिक संस्कृत और समस्त प्राकृत भाषाओं का मूल एक ही है और वैदिक तथा लौकिक संस्कृत द्वितीय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन है, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-क्रम का निर्णय एकमात्र उसी सादृश्य के तारतम्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्कृत और प्राकृत तद्भव शब्दों में पाया जाता है । जिस प्राकृत भाषा के तद्भव शब्दों का वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ जितना अधिक सादृश्य होगा वह उतनी ही प्राचीन और जिसके तद्भव शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जितना अधिक भेद होगा वह उतनी ही अर्वाचीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक लगता है यह निर्विवाद है ।

द्वितीय स्तर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अथवा शिलालेखों में स्थान पाया है उनके शब्दों की वैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त पद्धति से तुलना करने पर, जो भेद पार्थक्य) देखने में आते हैं उनके अनुसार द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद (प्रकार) होते हैं, जो क्रम से इन तीन मुख्य काल-विभागों में बाँटे जा सकते हैं—(१) प्रथम युग—ख्रिस्त-पूर्व चार सौ से लेकर ख्रिस्त के बाद एक सौ वर्ष तक (400 B. C. to 100 A. D.), (२) मध्ययुग—ख्रिस्त के बाद एक सौ से पाँच सौ वर्ष तक (100 A. C. to 500 A. D.), (३) शेष युग—ख्रिस्तीय पाँच सौ से एक हजार वर्ष तक (500 A. D. to 1000 A. D.) ।

प्रथम युग (ख्रिस्त-पूर्व ४०० से ख्रिस्त के बाद १००)

- (क) हीनयान बौद्धों के त्रिपिटक महावश और जातक-प्रसूति ग्रन्थों की पाली भाषा ।
- (ख) पैशाची और चूलिकापैशाची ।
- (ग) जैन अंग-ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा ।
- (घ) अंग-ग्रन्थ-भिन्न प्राचीन सूत्रों की और पलम-चरिअ आदि प्राचीन ग्रन्थों की जैन महाराष्ट्री भाषा ।
- (ङ) अशोक-शिलालेखों की एवं परवर्ति-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा ।
- (च) अश्वघोष के नाटकों की भाषा ।

मध्ययुग (ख्रिस्तीय १०० से ५००)

- (क) त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते नाटकों की और बाद के कालिदास-प्रभृति के नाटकों की शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री भाषाएँ ।
- (ख) सेतुबन्ध, गाथासप्तशती आदि काव्यों की महाराष्ट्री भाषा ।
- (ग) प्राकृत व्याकरणां में जिनके लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं वे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिकापैशाची भाषाएँ ।
- (घ) दिगम्बर जैन ग्रन्थों की शौरसेनी और परवर्ति-काल के श्वेताम्बर ग्रन्थों की जैन महाराष्ट्री भाषा ।
- (ङ) चङ के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा ।

शेष युग (ख्रिस्तीय ५०० से १००० वर्ष)

भिन्न-भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपभ्रंश भाषाएँ ।

अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण और विशेष विवरण, उक्त क्रम के अनुसार (१) पालि, (२) पैशाची, (३) चूलिकापैशाची, (४) अर्धमागधी, (५) जैन महाराष्ट्री, (६) अशोकलिपि, (७) शौरसेनी, (८) मागधी, (९) महाराष्ट्री, (१०) अपभ्रंश इन शीर्षकों में क्रमशः दिया जाता है ।

(१) पालि

हीनयान बौद्धों के धर्म-ग्रन्थों की भाषा को पालि कहते हैं । कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शब्द 'पङ्क्ति' पर से बना है^१ । 'पङ्क्ति' शब्द का अर्थ है 'श्रेणी'^२ । प्राचीन बौद्ध लेखक अपने ग्रन्थ में धर्म-शास्त्र की वचन-पङ्क्ति को उद्धृत करते समय इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बौद्ध धर्म-शास्त्रों की भाषा का ही नाम पालि हुआ । अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पङ्क्ति' पर से नहीं, परन्तु 'पल्लि' पर से हुआ निर्देश और व्युत्पत्ति है । 'पल्लि' शब्द असल में संस्कृत नहीं परन्तु प्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह यह भी पीछे से संस्कृत में लिया गया है । पल्लि शब्द जैनों के प्राचीन अंग-ग्रन्थों में भी पाया जाता है^३ । 'पल्लि' शब्द का अर्थ है ग्राम या गाँव । 'पालि' का अर्थ गाँवों में बोली जाती भाषा—ग्राम्य भाषा—होता है । 'पङ्क्ति' पर से 'पालि' होने की कल्पना जितनी क्लेश-साध्य है 'पल्लि' पर से 'पालि' होना उतना ही सहज-बोध्य है । इससे हमें पिछला मत ही अधिक सगत मालूम होता है । 'पालि' केवल ग्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका यह नाम हुआ है यह बात नहीं है । पालि प्रदेश-विशेष के ग्रामों की तरह शहरों के भी जन-साधारण की यह भाषा थी, परन्तु संस्कृत के अनन्य-भक्त

१ "पङ्क्ति = पक्ति = पति = पटि = पटि = पलि = पल्लि = पालि, अथवा पङ्क्ति = पत्ति = पट्टि = पल्लि = पालि" (पालिप्रकाश, प्रवेशक, पृष्ठ ९) ।

२ "सैतुत्ति तन्तिपन्तीसु नालियं पालि कथ्यते" (अभिधानप्रदीपिका ६६६) ।

३ देखो, विपाकश्रुत (पत्र ३८, ३९) ।

ब्राह्मणों की ही ओर से इस भाषा की तरफ अपनी स्वाभाविक घृणा^१ को व्यक्त करने के लिए इसका यह नाम दिया जाना और अधिक प्रसिद्ध हो जाने के कारण पीछे से बौद्ध विद्वानों का भी मागधी की जगह इस शब्द का प्रयोग करना आश्चर्यजनक नहीं जान पड़ता ।

उक्त प्राकृत भाषा-समूह में पालि भाषा के साथ वैदिक संस्कृत का अधिक सादृश्य देखा जाता है । इसी कारण से द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं में पालि भाषा सर्वापेक्षा प्राचीन मालूम पड़ती है ।

पालि भाषा के उत्पत्ति-स्थान के बारे में विद्वानों का मत-भेद है । बौद्ध लोग इसी भाषा को मागधी कहते हैं और उनके मत से इस भाषा का उत्पत्ति-स्थान मगध देश है । परन्तु इस भाषा का मागधी प्राकृत के साथ कोई सादृश्य नहीं है । डॉ. कोनो (Dr. Konow) और सर ग्रियर्सन ने इस भाषा का पैशाची भाषा के साथ सादृश्य देखकर पैशाची भाषा जिस देश में प्रचलित थी उसी देश को इसका उत्पत्ति-स्थान बताया है,

उत्पत्ति-स्थान यद्यपि पैशाची भाषा के उत्पत्ति-स्थान के विषय में इन दोनों विद्वानों का मतैक्य नहीं है । डॉ. कोनो के मत में पैशाची भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचल का दक्षिण प्रदेश है और सर ग्रियर्सन का मत यह है कि 'इसका उत्पत्ति-स्थान भारतवर्ष का उत्तर-पश्चिम प्रान्त है, वहाँ उत्पन्न होने के बाद संभव है कि कोंकण-प्रदेश-पर्यन्त इसका विस्तार हुआ हो और वहाँ इससे पालि भाषा की उत्पत्ति हुई हो ।' परन्तु पालि भाषा अशोक के गुजरात-प्रदेश-स्थित गिरनार के शिलालेख के अनुरूप होने के कारण यह मगध में नहीं, किन्तु 'भारतवर्ष के पश्चिम प्रान्त में उत्पन्न हुई है और वहाँ से सिंहल देश में ले जाई गई है' यही मत विशेष सगत प्रतीत होता है, क्योंकि निम्नोक्त उदाहरणों से पालिभाषा का गिरनार-शिलालेख के साथ सादृश्य और पूर्व-प्रान्त-स्थित धौलि (खडगिरि) शिलालेख के साथ पार्थक्य देखा जाता है—

संस्कृत	पालि	गिरनारशिला०	धौलिशिला०
राज्ञ.	राजिनो, रब्बो	राणो	लजिन
कृतम्	कत्त	कत्त	कडे

इस विषय में डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि "बुद्धदेव^२ के समस्त उपदेश मागधी भाषासे बाद के समय में मध्यदेश (Doab) की शौरसेनी प्राकृत में अनुवादित हुए थे और वे ही ख्रिस्त-पूर्व प्राय दो सौ वर्ष से पालि-भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं ।" किन्तु सच तो यह है कि पालि भाषा का शौरसेनी और मागधी की अपेक्षा पैशाची के साथ ही अधिक सादृश्य है जो निम्नोक्त उदाहरणों से स्पष्ट जाना जाता है ।

संस्कृत	पालि	पैशाची	शौरसेनी	मागधी
*रु ^३ (लोक)	क (लोक)	क (लोक)	० (लोम्र)	० (लोम्र)
*ग (नग)	ग (नग)	ग (नग)	० (एम्र)	० (एम्र)
*च (शची)	च (सची)	च (सची)	० (सई)	० (शई)
*ज (रजत)	ज (रजत)	ज (रजत)	० (रम्रद)	० (लम्रद)
*त (कृत)	त (कत्त)	त (कत्त)	द (कद)	ड (कड)
र (कर)	र (कर)	र (कर)	र (कर)	ल (कल)

१. "लोकायत कुतर्कं च प्राकृतं म्लेच्छभाषितम् ।

न श्रोतव्यं द्विजेनैतदवो नयति तद् द्विजम्" (गण्डपुराण, पूर्वखण्ड ६८, १७) ।

२. The Origin and Development of the Bengalee Language, Vol. I, page 57.

३. इन उदाहरणों में प्रथम वह अक्षर दिया गया है जिसका उस उस भाषा के नीचे दिए गए अक्षरों में परिवर्तन होता है और अक्षर के बाद ब्रकेट में उसी अक्षरवाला शब्द स्पष्टता के लिए दिया गया है ।

* स्वर वर्णों के मध्यवर्ती असंयुक्त वर्ण ।

संस्कृत	पालि	पैशाची	शौरसेनी	मागधी
श (वश)	स (वस)	स (वस)	स (वस)	श (वश)
ष (मेष)	स (मेष)	स (मेष)	स (मेष)	श (मेष)
स (सारस)	स (सारस)	स (सारस)	स (सारस)	श (शालश)
न (वचन)	न (वचन)	न (वचन)	ण (वग्रण)	ण (वग्रण)
हृ (पट्ट)	ट्ट (पट्ट)	ट्ट (पट्ट)	ट्ट (पट्ट)	स्ट (पस्ट)
र्थ (अर्थ)	त्थ (अर्थ)	त्थ (अर्थ)	त्थ (अर्थ)	स्त (अस्त)
स् (वृक्ष)	ओ (रुक्खो)	ओ (रुक्खो)	ओ (रुक्खो)	ए (लुक्खे)

पालि भाषा की उत्पत्ति का समय ख्रिस्त के पूर्व षष्ठ शताब्दी कहा जाता है, किन्तु वह काल बुद्धदेव की सम-
उत्पत्ति-समय सामयिक कथ्य मागधी भाषा का हो सक्ता है। पालि कथ्य भाषा नहीं, परन्तु बौद्ध धर्म-साहित्य
की भाषा है। सभवतः यह भाषा ख्रिस्त के पूर्व चतुर्थ या पञ्चम शताब्दी में पश्चिम भारत में
उत्पन्न हुई थी।

इस पालि-भाषा से आधुनिक सिंहली भाषा की उत्पत्ति हुई है।

प्राकृत शब्द से साधारणतः पालि-भिन्न अन्य भाषाएँ ही समझी जाती हैं। इससे, और पालि भाषा के अनेक
स्वतन्त्र कोष होने से, प्रस्तुत कोष में पालि भाषा के शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए पालि भाषा की विशेष
आलोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है।

(२) पैशाची

गुणाढ्य ने ^२बृहत्कथा पैशाची भाषा में लिखी थी, जो लुप्त हो गई है। इस समय पैशाची भाषा के उदाहरण
निदर्शन प्राकृतप्रकाश, आचार्य हेमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण, षड्भाषाचन्द्रिका, प्राकृत-सर्वस्व और संक्षिप्तसार
आदि प्राकृत-व्याकरणों में आचार्य हेमचन्द्र के कुमारपाल-चरित तथा काव्यानुशासन में, मोहराज-
पराजय नामक नाटक में और दो-एक षड्भाषास्तोत्रों में मिलते हैं।

भरत के नाट्यशास्त्र में पैशाची नाम का उल्लेख देखने में नहीं आता है, परन्तु इसके परवर्ती ^४रुद्रट, ^५केशव-
मिश्र आदि संस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उल्लेख किया है। वाग्भट ने इस भाषा को ^६'भूतभाषित' के नाम से
अभिहित की है।

^७वाग्भट तथा ^८केशवमिश्र ने क्रम से भूत और पिशाच-प्रभृति पात्रों के लिए और ^९षड्भाषा-चन्द्रिकाकार ने
विनियोग राक्षस, पिशाच और नीच पात्रों के लिए इसका विनियोग बतलाया है।

१. पुलिग में प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय।

२. आचार्य उद्घोतन की कुवलय माला में, दण्डी के काव्यादर्श में, बाण के हर्षचरित में, धनञ्जय के दशरुणक में, सुबन्धु की
वासवदत्ता में और अन्यान्य प्राकृत-संस्कृत ग्रंथों में इनका उल्लेख पाया जाता है। क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथामञ्जरी और सोमदेवभट्ट-
प्रणीत कथासरित्सागर इसी बृहत्कथा का संस्कृत अनुवाद है। इस बृहत्कथा के ही भिन्न-भिन्न प्रश्नों के आधार पर बाण, श्रीहर्ष,
भवभूति आदि संस्कृत के महाकवियों की कादम्बरी, रत्नावली, मालतीमाधव-प्रभृति अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की गई है।

३. पृष्ठ २२६, २३३।

४. काव्यालंकार २, १२।

५. 'संस्कृत प्राकृत चैव पैशाची मागधी तथा' (अलङ्कारशेखर, पृष्ठ ५)।

६. 'संस्कृत प्राकृत तस्यापन्न शो भूतभाषितम्' (वाग्भटालङ्कार २, १)।

७. 'यद् भूतेष्व्यते किञ्चिद् तद्भौतिकमिति स्मृतम्' (वाग्भटालङ्कार २, ३)।

८. 'पैशाचीं तु पिशाचाद्या प्राहुः' (अलङ्कारशेखर, पृष्ठ ५)।

९. रत्न पिशाचनीचेपु पैशाचीद्वितय भवेत् ॥३५॥' (षड्भाषा-चन्द्रिका, पृष्ठ ३)।

षड्भाषाचन्द्रिकाकार पिशाच-देशों की भाषा को ही पैशाची कहते हैं और पिशाच-देशों के निर्देश के लिए नीचे उत्पत्ति-स्थान के श्लोकों को उद्धृत करते हैं —

‘पारण्यकेकयवाहीकसहनेपालकुन्तला ।
सुवेष्णभोजगान्धारहैवकन्नोजनास्तथा ।
एते पिशाचदेशा स्यु’

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका के

‘काञ्चीदेशीयपारण्यं च पाञ्चाल गौड-मागधम् ।
द्राचड दाक्षिणात्य च शौरसेन च कैकयम् ॥
शावरं द्राविड चैव एकादश पिशाचजा ।

इस वचन को उद्धृत कर ग्यारह प्रकार की पैशाची का उल्लेख किया है, परन्तु बाद में इस मत का खण्डन करके सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पैशाची का ग्रहण किया है यथा—‘कैकय शौरसेन च पाञ्चालमिति च त्रिधा पैशाच्य’ ।

लक्ष्मीधर और मार्कण्डेय ने जिन प्राचीन वचनों का उल्लेख किया है उनमें पाण्ड्य, काञ्ची और कैकय आदि प्रदेश एक दूसरे से अतिदूरवर्ती प्रान्तों में अवस्थित हैं । इतने दूरवर्ती प्रदेश एकदेशीय भाषा के उत्पत्ति-स्थान कैसे हो सकते हैं ? यदि पैशाची भाषा किसी प्रदेश की भाषा न हो कर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहनेवाली किसी जाति-विशेष की भाषा हो तो इसका संभव इस तरह हो भी सकता है कि पूर्वकाल में किसी एक देश-विशेष में रहनेवाली पिशाच-प्राय मनुष्य-जाति बाद में भिन्न-भिन्न देशों में फैलती हुई वहाँ अपनी भाषा को ले गई हो । मार्कण्डेय-निर्दिष्ट तीन प्रकार की पैशाची परस्पर सनिहित प्रदेशों की भाषा है, इससे खूब ही संभव है कि यह पहले कैकय देश में उत्पन्न हुई हो और बाद में उसी के समीपस्थ शूरसेन और पञ्जाब तक फैल गई हो । मार्कण्डेय ने शौरसेन-पैशाची और पाञ्चाल-पैशाची की प्रकृति जो कैकय-पैशाची वही है इसका मतलब भी यही हो सकता है । सर ग्रियर्सन के मत में पिशाच-भाषा-भाषी लोगों का आदिम वास-स्थान उत्तर-पश्चिम पञ्जाब अथवा अफगानिस्थान का प्रान्त प्रदेश है और बाद में वहाँ से ही संभवतः इसका अन्य देशों में विस्तार हुआ है । किन्तु डॉ हॉर्नेल का इस विषय में और ही मत है । उनका कहना यह है कि अनार्य जाति के लोग आर्य-जाति की भाषा का जिस विद्युत रूप में उच्चारण करते थे वही पैशाची भाषा है, अर्थात् इनके मत में पैशाची भाषा न तो किसी देश-विशेष की भाषा है और न वह वास्तव में भिन्न भाषा ही है । हमें सर ग्रियर्सन का मत ही प्रामाणिक प्रतीत होता है जो मार्कण्डेय के मत के साथ अनेकाश में मिलता जुलता है ।

वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही पैशाची भाषा का मूल कहा है^२ । मार्कण्डेय ने पैशाची भाषा को कैकय, शौरसेन और पाञ्चाल इन तीन भेदों में विभक्त कर संस्कृत और शौरसेनी उभय को कैकय-पैशाची का और कैकय-पैशाची को शौरसेन पैशाची का मूल बतलाया है । पाञ्चाल पैशाची के मूल का उन्होंने निर्देश ही नहीं किया है, किन्तु उन्होंने इसके जो केरी (केलि) और मदिल (मन्दिरम्) ये दो उदाहरण दिये हैं इससे मालूम होता है कि इस पाञ्चाल-पैशाची का कैकय-पैशाची से रकार और लकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है, सुतरा शौरसेन-पैशाची की तरह पाञ्चाल-पैशाची की प्रकृति भी इनके मत में कैकय-पैशाची ही हो सकती है । यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि मार्कण्डेय ने शौरसेन-पैशाची के जो लक्षण दिए हैं उन पर से शौरसेन-पैशाची का

प्रकृति

१. वर्तमान महारा और कन्याकुमारी के आसपास के प्रदेश का नाम पारण्य, पञ्चनद प्रदेश का नाम कैकय, अफगानिस्थान के वर्तमान बालखनगरवाले प्रदेश का नाम वाहीक, दक्षिण भारत के पश्चिम उपकूल का नाम सद्य, नर्मदा के उत्पत्ति-स्थान के निकटवर्ती देश का नाम कुन्तल, वर्तमान काठूल और पेशावरवाले प्रदेश का नाम गान्धार, हिमालय के निम्न-वर्ती पार्वत्य प्रदेश-विशेष का नाम हैव और दक्षिण महाराष्ट्र के पार्वत्य श्रवचल का नाम कन्नोजन है ।

२. “प्रकृति शौरसेनी” (प्राकृतप्रकाश १०, २) ।

३. “सस्य श”, “रस्य लो भवेत्”, “ज्वगंत्योपरिष्ठाद् य”, “कृतादिषु कशाय”, “क्षस्य च्छ”, “स्याविकृते एत्य श्त्”, “सत्ययो श च्छ्वं स्यात्”, “अत सोरो (१२) त्” (प्राकृतसर्वस्व, श्रु १२६) ।

शौरसेनी भाषा के साथ कोई भी संबन्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कैरुय-पैशाची के साथ शौरसेन-पैशाची के जो भेद उन्होंने बतलाए हैं वे मागधी भाषा के ही अनुरूप हैं, न कि शौरसेनी के। इससे हमको शौरसेन-पैशाची न कह कर मागवे-पैशाची कहना ही सगत जान पड़ता है।

प्राकृत वैयाकरणों के मत से पैशाची भाषा का मूल शौरसेनी अथवा संस्कृत भाषा है, किन्तु हम पहले यह भलीभाँति दिखा चुके हैं कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भाषा, संस्कृत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्न नहीं है, परन्तु वह वही कथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वैदिक युग में उस प्रदेश में प्रचलित थी। इस लिए पैशाची भाषा का भी मूल संस्कृत या शौरसेनी नहीं, किन्तु वह प्राकृत भाषा ही है जो वैदिक युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त की या अफगानिस्थान के पूर्व प्रान्त-वर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी।

प्रथम युग की पैशाची भाषा का कोई निदर्शन साहित्य में नहीं मिलता है। गुणाढ्य की बृहत्कथा संभवतः इसी प्रथम युग की पैशाची भाषा में रची गई थी, किन्तु वह आजकल उपलब्ध नहीं है। इस समय हम व्याकरण, नाटक और काव्य में पैशाची भाषा के जो निदर्शन पाते हैं वह मध्ययुग की पैशाची भाषा का है। मध्ययुग की यह पैशाची भाषा ख्रिस्त की द्वितीय शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी पर्यन्त प्रचलित थी।

पैशाची भाषा का शौरसेनी भाषा के साथ जिस-जिस अंश में भेद है वह सामान्य रूप से नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य सभी अंशों में वह शौरसेनी के ही समान है। इससे इसके बाकी के लक्षण शौरसेनी के प्रकरण से जाने जा सकते हैं।

वर्ण-भेद

- १ ङ, न्य और एय के स्थान में व्य होता है, यथा—प्रज्ञा = पञ्ञा; ज्ञान = ञ्ञान, कन्यका = कञ्ञका, अभिमन्यु = अभिमञ्ञु, पुण्य = पुञ्ञ्य।
- २ ए और न के स्थान में न होता है, जैसे—गुण = गुन, कनक = कनक।
- ३ त और द की जगह त होता है, जैसे—भगवती = भगवती, शत = सत, मदन = मतन, देव = तेव।
- ४ लकार ल में बदलता है, यथा—सील = सीळ, कुल = कुळ।
- ५ ट की जगह ट्ट और तु होता है, जैसे—कुटुम्बक, कुटुम्बक, कुतुम्बक।
- ६ महाराष्ट्री के लक्षण में असंयुक्त-व्यञ्जन परिवर्तन के १ से १३, १५ और १६ अंकवाले जो नियम बतलाए गए हैं वे शौरसेनी भाषा में लागू होते हैं, किन्तु पैशाची में नहीं, यथा—लोरु = लोरु, शाखा = साखा, भट = भट, मठ = मठ, गरुड = गरुड, प्रतिभास = पतिभास, कनक = कनक, शपथ = सपथ, रेफ = रेफ, शवल = सबळ, यशस् = यस, करणीय = करणीय, अगार = इगार, दाह = दाह।
- ७ यादृश आदि शब्दों का इ परिणत होता है त्रि में, यथा—यादृश = यातिस, सदृश = सतिस।

नाम-विभक्ति

- १ अकारान्त शब्द की पञ्चमी का एकवचन आतो और आतु होता है, जैसे—जिनातो, जिनातु।

आख्यात

- १ शौरसेनी के दि और वे प्रत्ययों की जगह ति ओर ते होता है, यथा—गच्छति, गच्छते, रमति, रमते।
- २ भविष्य-काल में स्ति के बदले एय्य होता है, जैसे—भविष्यति = हुवेय्य।
- ३ भाव और कर्म में ईअ तथा इल के स्थान में इय्य होता है, यथा—पठ्यते = पठिय्यते, हसिय्यते।

कृदन्त

- १ एवा प्रत्यय के स्थान में कहीं तून और कही धून और डून होते हैं, यथा पठित्वा = पठितून, गत्वा = गतून, नष्ट्वा = नष्टून, नद्धून, तष्ट्वा = तथून, तद्धून।

(३) चूलिकापैशाची

चूलिकापैशाची भाषा के लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में और पंडित लक्ष्मीधर ने अपनी षड्भाषाचन्द्रिका में दिए हैं। आचार्य हेमचन्द्र के कुमारपालचरित और काव्यानुशासन में इस भाषा के निदर्शन पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त हम्मीरमदमर्दन नामक नाटक में और दो-एक छोट्टे-छोट्टे षड्भाषास्तोत्रों में भी इसके कुछ नमूने देखने में आते हैं।

प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, सक्षिप्तसार और प्राकृतसर्वस्व वगैरह प्राकृत-व्याकरणों में और संस्कृत के अलंकार ग्रन्थों में चूलिकापैशाची का कोई उल्लेख नहीं है; अथ च आचार्य हेमचन्द्र ने और पं लक्ष्मीधर ने चूलिकापैशाची के जो लक्षण दिए हैं वे चंड, वररुचि, क्रमदीश्वर और मार्कण्डेय प्रभृति वैयाकरणों ने पैशाची भाषा के लक्षणों में ही अन्तर्गत किए हैं। इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त वैयाकरण-गण चूलिकापैशाची को पैशाची भाषा के अन्तर्भूत पेशाची में इसका अन्तर्भाव ही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप में नहीं। आचार्य हेमचन्द्र भी अपने अभिधानभिन्तामणि नामक संस्कृत कोष-ग्रन्थ के "भाषा षट् संस्कृतादिका (काण्ड २, १९६) इस वचन की "संस्कृत-प्राकृत-मागवी शौरसेनी-पैशाच्यपञ्चशलक्षणा" यह व्याख्या करते हुए चूलिकापैशाची का अलग उल्लेख नहीं करते। इससे मालूम पड़ता है कि वे भी चूलिकापैशाची को पैशाची का ही एक भेद मानते हैं। हमारा भी यही मत है। इससे यहाँ पर इस विषय में पैशाची भाषा के अनन्तरोक्त विवरण से कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ आचार्य हेमचन्द्र ने और उन्हीं का पूरा अनुसरण कर पं लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिए हैं वे नीचे उद्धृत किए जाते हैं। इनके सिवा सभी अशों में इस भाषा का पैशाची से कोई पार्थक्य नहीं है।

लक्षण

- वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्षरों के स्थान में क्रमशः प्रथम और द्वितीय होता है^१, यथा—नगर = नकर, व्याघ्र = वक्ख, राजा = राचा, निर्भर = निच्छर, तडाग = तटाक, ढक्का = ठक्का, मदन = मतन, मधुर = मथुर, बालक = पालक, भगवती = फकवती।
- र के स्थान में वैकल्पिक ल होता है, यथा—रुद्र = लुद्र, रुद्र।

(४) अर्धमागधी

भगवान् महावीर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा में देते थे^२। इसी उपदेश के अनुसार उनके समसामयिक गणधर श्री सुधर्मस्वामी ने अर्धमागधी भाषा में ही आचाराङ्ग-प्रभृति सूत्र-ग्रन्थों की रचना की थी^३। ये ग्रन्थ उस समय लिखे नहीं गए थे, परन्तु शिष्य परम्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा संरक्षित होते थे। दिगम्बर जैनों के मत से ये समस्त ग्रन्थ विलुप्त हो गए हैं, परन्तु श्वेताम्बर जैन दिगम्बरों के इस मन्तव्य से सहमत नहीं हैं। श्वेताम्बरों के मत के प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा अर्धमागधी अनुसार ये सूत्र-ग्रन्थ महावीर-निर्वाण के बाद ९८० अर्थात् ख्रिस्ताब्द ४५४ में बलभी (वर्तमान बल, काठियावाड़) में श्रीदेवद्विगणि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपिबद्ध किए। उस समय लिखे जाने पर भी इन ग्रन्थों की भाषा प्राचीन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्वारा बहु-शताब्दी-पर्यन्त वेदों की रक्षा की थी वैसे ही जैन मुनियों ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से मुख-पाठ द्वारा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र ग्रन्थों को याद रखा था। दूसरा यह है कि जैन धर्म में सूत्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के लिए खूब जोर दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध या विपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया है। तिस पर भी सूत्र-ग्रन्थों की भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण करने से इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान् महावीर के समय की अर्ध-

१ ग्रन्थ वैयाकरणों के मत से यह नियम शब्द के आदि के अक्षरों में लागू नहीं होता है (हे० प्रा० ४, ३२७)।

२. "भगवं च एतं श्रद्धमाहीए भासाए घम्ममाइक्खइ" (समवायाङ्ग सूत्र, पत्र ६०)।

"तए ए समणे भगव महावीरे कूणिअस्स रएणो भिभिसारपुत्तस्स श्रद्धमागहाए भासाए भासाइ। सा वि य ए श्रद्धमागहा भासा तैसि सव्वेसि आरियमएारियाए अण्णो सभासाए परिणामेण परिणमइ" (औपपातिक सूत्र)।

३. "अर्थं भासइ अरिहा, सुत्त गयति गएहरा निवण" (आवश्यकनिष्ठिक)।

भाषा के इन ग्रन्थों में, अज्ञातभाव से ही क्यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र-ग्रन्थ वेदों की तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ-प्रधान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये ग्रन्थ जन-साधारण के बोध के लिये ही उस समय की कथ्य भाषा में रचे गये थे और कथ्य भाषा में समय गुजरने के साथ-साथ अवश्य होनेवाले परिवर्तन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस-उस समय के लोगों को समझाने के उद्देश्य से भी, आश्चर्यकर नहीं है। इसके सिवा, भाषा-परिवर्तन का यह भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण से करीब दो सौ वर्ष के बाद (ख्रिस्त-पूर्व ३१०) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगध देश में बारह वर्षों का सुदीर्घ अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-वर्ती प्रदेश (दक्षिण देश) में जाना पड़ा था। उस समय वे सूत्र-ग्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गए थे। इससे अकाल के बाद पाटलिपुत्र में सघने एकत्रित होकर जिस-जिस साधु को जिस-जिस अङ्ग-ग्रन्थ का जो-जो अंश जिस-जिस आकार में याद रह गया था, उस-उस से उस-उस अङ्ग-ग्रन्थ के उस-उस अंश को उस-उस रूप में प्राप्त कर ग्यारह अङ्ग-ग्रन्थों का सकलन किया। इस घटना से जैसे अङ्ग-ग्रन्थों की भाषा के परिवर्तन का कारण समझ में आ सकता है, वैसे इन ग्रन्थों की अर्धभाषा भाषा में, मगध के पार्श्व-वर्ती प्रदेशों की भाषाओं की तुलना में दूरवर्ती महाराष्ट्र-प्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि दक्षिण प्रदेश में प्राचीन काल में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रभाव हुआ था तब यह अनुमान करना अयुक्त नहीं है कि उक्त दीर्घकालिक अकाल के समय साधु लोग समुद्र-तीर-वर्ती इस दक्षिण प्रदेश में ही गए थे और वहाँ उन्होंने उपदेश-द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया था। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके बिना उपदेश-द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य वे कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असंभव नहीं है कि उन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। इसी प्रभाव को लेकर उनमें से कई एक साधु-लोग पाटलिपुत्र के उक्त समेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे अङ्गों के पुनः सकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था।

उक्त घटना से करीब आठ सौ वर्षों के बाद बलभी (सौराष्ट्र) और मथुरा में जैन ग्रन्थों को लिपि बद्ध करने के लिए मुनि समेलन किए गए थे, क्योंकि इन सूत्र-ग्रन्थों का और उस समय तक अन्य जो जैन ग्रन्थ रचे गए थे उनका भी क्रमशः विस्मरण हो चला था और यदि वही दशा कुछ अधिक समय तक चालू रहती तो समग्र जैन शास्त्रों के लोप हो जाने का डर था जो वास्तव में सत्य था। संभवतः इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो चुका था और इन समस्त प्रदेशों से अल्पाधिक संख्या में आकर साधु लोगों ने इन समेलनों में योग-दान किया था। भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आगत इन मुनियों से जो ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में वह लिपि-बद्ध किया गया। उक्त मुनियों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में चिर-काल तक विचरने के कारण उन प्रदेशों को भिन्न-भिन्न भाषाओं का,

१. "श्रुत्वा दिष्टिवायं कालियलकालियगसिद्धत ।

श्रीवालवायणस्थ पाययमुद्ग्य जिणवरेहि ॥'

(आचारदिनकर में श्रीवर्धमानसूरि द्वारा उद्धृत की हुई प्राचीन गथा) ।

'बालस्त्रीमन्दसूक्तिणा नृणा चारिषकाडि क्षणाम् ।

अनुग्रहार्थं तत्त्वज्ञै सिद्धान्त प्राकृत कृत ॥'

(हरिभद्रसूरि की दशवैकालिक टीका में और हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन श्लोक) ।

२. देखो Annual Report of Asiatic Society, Bengal, 1698 में डॉ. हॉर्नलि का लेख ।

३ "इतश्च तस्मिन् दुष्काले कराले कालरात्रिवत् । निर्वाहार्थं साधुसङ्घस्तीर नीरनिवेयंयौ ॥१५॥

अग्रण्यमान तु तदा साधूना विसृत्तं श्रुत्तम् । अनभ्यसन्तो नश्यत्यधीत धीमतामपि ॥१६॥

सद्योऽप्य पाटलीपुत्रे दुष्कालान्तेऽखिलोऽमिलत् । यदङ्गाध्ययनोद्देश्याद्यासीद् यस्य तदाददे ॥१७॥

ततश्चैकादशाङ्गानि श्रीसधोऽमेलयत् तदा । दृष्टिवादनमित्तं च तस्यौ किञ्चिद् विचिन्तयन् ॥१८॥

नेपालदेशमार्गस्थ भद्रवाहु च पूर्वियम् । ज्ञात्वा सघ समाह्वातु तत प्रैपोन्मुनिद्वयम् ॥१९॥

(स्वविरावलोचरित, सर्ग ६) ।

उच्चारणों का और विभिन्न प्राकृत भाषाओं के व्याकरणों का कुञ्ज-न-कुञ्ज अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थित धर्म-ग्रन्थों की भाषा पर भी पडना अनिवार्य था । यही कारण है कि अग-ग्रन्थों में, एक ही अङ्ग-ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न अशों में और कहीं कहीं तो एक ही अंग-ग्रन्थ के एक ही वाक्य में परस्पर भाषा-भेद नजर आता है । सम्भवतः भिन्न-भिन्न प्रदेशों की भाषाओं के प्रभाव से युक्त इसी भाषा-भेद को लक्ष्य में लेकर ख्रिस्त की सप्तम शताब्दी के ग्रन्थकार श्रीजिनदासगणि ने अपनी निशोथ-चूर्णि में अर्धमागधी भाषा का "अद्वारसदेसीभासानियम वा अर्धमागह" यह वैकल्पिक लक्षण किया है । भाषा-परिवर्तन के उक्त अनेक प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी अग-ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा में, पाटलिपुत्र के समेलन के बाद से, आमूल वा अधिक परिवर्तन न होकर उसके बदले जो सूक्ष्म या अल्प ही भाषा-भेद हुआ है और सैकड़ों की तादाद में उसके प्राचीन रूप अपने असल आकार में जो सुरक्षित रह सके हैं उसका श्रेय सूत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए प्रदर्शित पाप-वन्ध के उस धार्मिक नियम को है जो सम्भवतः पाटलीपुत्र के समेलन के बाद निर्मित या दृढ़ किया गया था ।

यहाँ पर प्रसंग-वश इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि समवायाग सूत्र में निर्दिष्ट अग-ग्रन्थ-सम्बन्धी विषय और परिमाण का वर्तमान अङ्ग-ग्रन्थों में कहीं-कहीं जो थोडा-बहुत कमश विसवाद् और हास पाया जाता है और अङ्ग-ग्रन्थों में ही वाद के उपाङ्ग-ग्रन्थों का और वाद की घटनाओं का जो उल्लेख दृष्टिगोचर होता है उसका समाधान भी हमको उक्त सम्मेलनों की घटनाओं से अच्छी तरह मिल जाता है ।

समवायाङ्ग सूत्र, व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र, औपपातिक सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र में तथा अन्यान्य प्राचीन जैन ग्रन्थों में जिस भाषा को अर्धमागधी नाम दिया गया है, स्थानाङ्गसूत्र और अनुयोगद्वारसूत्र में जिस भाषा को 'ऋषिभाषिता' कहा गया है और सम्भवतः इसी 'ऋषिभाषिता' पर से 'आचार्य हेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा की 'आर्ष' अर्धमागधी और आर्ष (ऋषियों की भाषा) सजा रखी है वह वस्तुतः एक ही भाषा है अर्थात् अर्धमागधी, ऋषिभाषिता और आर्ष ये तीनों एक ही भाषा के भिन्न-भिन्न नाम हैं, जिनमें पहला उसके उत्पत्ति-स्थान से और बाकी के दो उस भाषा को सर्व-प्रथम साहित्य में स्थान देनेवालों से सम्बन्ध रखते हैं । जैन सूत्रों की भाषा यही अर्धमागधी, ऋषिभाषिता या आर्ष है । आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आर्ष प्राकृत के जो लक्षण और उदाहरण

१. समवायाङ्ग सूत्र, पत्र १०६ से १२५ ।

२. "जहा पन्नवणाए पढमए आहारहेसए" (व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र १, १—पत्र १६) ।

३. देखो, स्थानाङ्ग सूत्र, पत्र ४१० में वर्णित निहव-स्वरूप ।

४. देखो, पृष्ठ १६ में दिया हुआ समवायाङ्गसूत्र और औपपातिकसूत्र का पाठ ।

"देवा ए भते । कयराए भासाए भासति ? कयरा वा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ? गोयमा । देवा ए अद्धमागहाए भासाए भासति, सावि य ए अद्धमागहा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ।" (व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र ५, ४—पत्र २२१) ।

"से किं त भासारिया ? भासारिया जे ए अद्धमागहाए भासाए भासति" (प्रज्ञापनासूत्र १—पत्र ६२) ।

मगहद्विसयभासाणिवद्ध अद्धमागह, अद्वारसदेसीभासाणियम वा अद्धमागह" (निशोथचूर्णि) ।

"आरिसवयणे सिद्ध देवाए अद्धमागहा वाणी" (काव्यालकार की नमिसाधुकुटीका २, १२) ।

"सर्वार्धमागधी सर्वभाषासु परिणामिनीम् ।

सर्वेषा सर्वतो वाच सावन्ती प्रणिवन्महे ॥" (वाग्भट्टकाव्यानुशासन, पृष्ठ २) ।

५. "सङ्गता पागता चैव दुहा भण्णित्तीओ आहिया ।

सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था इंसिभासिता ॥" (स्थानाङ्गसूत्र ७—पत्र ३६४) ।

"सङ्गता पायया चैव भण्णित्तीओ होति दोरिएण वा ।

सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था इंसिभासिता ॥" (अनुयोगद्वारसूत्र, पत्र १३१) ।

६. देखो, हेमचन्द्र-प्राकृतव्याकरण का सूत्र १, ३ ।

"आर्षोत्थमार्पणुत्थ च द्विविध प्राकृत विदु" (प्रेमचन्द्रतर्कवागीश द्वारा काव्यादर्शटीका १, ३३ में प्रदत्त किया हुआ पद्यांश) ।

बताए है उनसे तब, 'अत एव सौ पुंसि मागध्याम्' (हे० प्रा० ४, २८७) इस सूत्र की व्याख्या में जो "यदपि "पोराणमडमागह-भासानियय ह्वइ सुत्त" इत्यादिना आर्षस्य अर्धमागधभाषानियतत्वमान्नापि वृद्धैस्तदपि प्रायोऽस्यैव विधानात्, न चक्ष्यमाणलक्षणस्य" यह कहकर उसी के अनन्तर जो दशवैकालिक सूत्र से उद्धृत "कयरे प्रागच्छइ, से तारिसे जिइदिए" यह उदाहरण दिया है उससे उक्त बात निर्विवाद सिद्ध होती है ।

डॉ. जेकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है ।^१ डॉ. पिशाल ने अपने सुप्रसिद्ध प्राकृत-व्याकरण में डॉ. जेकोबी की इस बात का सप्रमाण खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आर्ष और अर्धमागधी इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एव प्राचीन जैन सूत्रों की—गद्य और पद्य दोनों की भाषा परम्परागत मत के अनुसार अर्धमागधी है । परवर्ती काल के जैन प्राकृत ग्रन्थों की भाषा अल्पाश में अर्धमागधी की और अविकाश में महाराष्ट्री की विशेषताओं से युक्त होने के कारण 'जैन महाराष्ट्री' कही जा सकती है, परन्तु प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई भी, अपनी उन अनेक खासियतों से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किसी प्राकृत में दृष्टिगोचर नहीं होती है, यह (जैन महाराष्ट्री) नाम नहीं दिया जा सकता ।

पंडित वेचरदास अपने गुजराती प्राकृत-व्याकरण की प्रास्तावना में जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा को प्राकृत (महाराष्ट्री) सिद्ध करने की विफल चेष्टा करते हुए डॉ. जेकोबी से भी दो कदम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि डॉ. जेकोबी जब इस भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री—साहित्य-निबद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री बताते हैं तब पंडित वेचरदास, प्राकृत भाषाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवाह न रखकर, अर्वाचीन महाराष्ट्री से इस प्राचीन अर्धमागधी को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं । पंडित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन में जो दलीलें पेश की हैं वे अधिकांश में भ्रान्त सरकारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्त्व न रखती हुई भी कुतूहल-जनक अवश्य हैं । उन दलीलों का सारांश यह है—(१) अर्धमागधी में महाराष्ट्री से मात्र दो-चार रूपों की ही विशेषता, (२) आचार्य हेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वतन्त्र व्याकरण या शौरसेनी आदि की तरह अलग-अलग सूत्र न बनाकर प्राकृत (महाराष्ट्री) या आर्ष प्राकृत में ही इसको अन्तर्गत करना, (३) इसमें मागधी भाषा की कतिपय विशेषताओं का अभाव, (४) निशीथचूर्णिकार के अर्धमागधी के दोनों में एक भी लक्षण की इसमें असंगति, (५) प्राचीन जैन ग्रन्थों में इस भाषा का 'प्राकृत' शब्द से निर्देश, (६) नाट्य-शास्त्र में और प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिष्ट अर्धमागधी के साथ प्रस्तुत अर्धमागधी की असमानता ।

१. मागधी भाषा में अकारान्त पुलिग शब्द के प्रथमा के एकवचन में 'ए' होता है ।

२. इसका अर्थ यह है कि प्राचीन आचार्यों ने "पुराणा सूत्र अर्धमागधी भाषा में नियत है" इत्यादि वचन-द्वारा आर्ष भाषा को जो अर्धमागधी भाषा कही है वह प्रायः मागधी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को लेकर, न कि प्रागे कहे जानेवाले मागधी भाषा के अन्य लक्षण के विधान को लेकर ।

३ इसी वचन के आधारे पर डॉ. हर्निल का चण्ड-कृत प्राकृतलक्षण के इन्ट्रोडक्शन (पृष्ठ १८-१९) में यह लिखना कि हेमचन्द्र के मत में 'पोराण' आर्ष प्राकृत का एक नाम है, भ्रम-पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 'पोराण' यह सूत्र का ही विशेषण है, भाषा का नहीं ।

४. आवश्यकसूत्र के पारिष्ठापनिकाप्रकरण (दे० ला० पु० फ० पत्र ६२८) में यह सपूर्ण गाथा इस तरह है —
"पुब्बावरसुत्त वेरगकर सततमविच्छेद । पोराणमडमागहभासानियय ह्वइ सुत्तं ॥"

५ Kalpa Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XII

६ Grammatik der Prakrit-Sprachen, 16-17

७ जैसे आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है वैसे पंडित वेचरदास ने भी अपने प्राकृत-व्याकरण में, जो केवल हेमाचार्य के ही प्राकृत व्याकरण के आधारे पर रचा गया है, सर्वत्र साहित्यिक महाराष्ट्री के अर्थ में ही प्राकृत शब्द का व्यवहार किया है ।

प्रथम दलील के उत्तर में हमें यहाँ अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकरण के अन्त में महाराष्ट्री से अर्धमागधी की विशेषताओं की जो सक्षिप्त सूची दी गई है वही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त डॉ बनारसीदास की 'अर्धमागधी रीडर', मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी की 'जैन-सिद्धान्त कौमुदी' और डॉ पिशाल का 'प्राकृत-व्याकरण' मौजूद है, जिनमें क्रमशः अधिकाधिक सख्या में अर्धमागधी की विशेषताओं का संग्रह है। आचार्य हेमचन्द्र के ही प्राकृत-व्याकरण के 'आर्षम्' सूत्र से, इसकी स्पष्ट और सर्व-भेद-ग्राही व्यापक व्याख्या से और जगह-जगह किए हुए आर्ष के सोदाहरण उल्लेखों से दूसरी दलील की निर्मूलता सिद्ध होती है। यदि आचार्य हेमचन्द्र द्वारा ही निदिष्ट की हुई दो-एक विशेषताओं के कारण चूलिकापैशाची अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विशेषताओं को लेकर शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं को भिन्न-भिन्न भाषा स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की जा सकती, तो कोई बजह नहीं है कि उसी वैयाकरण के द्वारा प्रकारान्तर से अथवा स्पष्ट रूप से बताई हुई वैसी ही अनेक विशेषताओं के कारण आर्ष या अर्धमागधी भी भिन्न भाषा न कही जाय। तीसरी दलील की जड़ यह भ्रान्त संस्कार है कि 'वही भाषा अर्धमागधी कही जाने योग्य हो सकती है जिसमें मागधी भाषा का आधा अंश हो'। इसी भ्रान्त संस्कार के कारण चौथी दलील में उद्धृत निशीथचूर्णिक अर्धमागधी के प्रथम लक्षण का सत्य और सीधा अर्थ भी उक्त पंडितजी की समझ में नहीं आया है। इस भ्रान्त संस्कार का निराकरण और निशीथचूर्णिकार द्वारा बताए हुए अर्धमागधी के प्रथम लक्षण का और उसके वास्तविक अर्थ का निर्देश इसी प्रकरण में आगे चलकर अर्धमागधी के मूल की आलोचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। पाँचवीं दलील भी प्राचीन आचार्यों के द्वारा जैन सूत्र-ग्रन्थों की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किए हुए 'प्राकृत' शब्द को 'महाराष्ट्री' के अर्थ में घसीटने से ही हुई है। मालूम पड़ता है, पंडितजी ने जैसे अपने व्याकरण में 'प्राकृत' शब्द को केवल महाराष्ट्री के लिए रिजर्व कर रखा है वैसे सभी प्राचीन आचार्यों के 'प्राकृत' शब्द को भी वे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अर्थ में सुकर किया हुआ समझ बैठे हैं। परन्तु यह समझ गलत है। प्राकृत शब्द का मुख्य अर्थ है प्रादेशिक कथ्य भाषा—लोक-भाषा। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति भी वास्तव में इसी अर्थ से सगति रखती है यह हम पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं। ख्रिस्त की पष्ठ शताब्दी के आचार्य दण्डी ने अपने काव्यादर्श में—

'शौरसेनी च गोडी च लाटी चान्या च ताहशी । याति प्राकृतमित्येव व्यवहारेणु सनिधिम् ।।' (१, ३५) ।

इन खुले शब्दों में यही बात कही है। इससे भी यह स्पष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यतः प्रादेशिक लोक-भाषा का ही वाचक है और इससे साधारणतः सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अर्थ में इसका प्रयोग होता आया है। दण्डी के समय तक के सभी प्राचीन ग्रंथों में इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार देखा जाता है। खुद दण्डी ने भी महाराष्ट्री भाषा में प्राकृत शब्द के प्रयोग को 'प्रकृत' शब्द से विशेषित करते हुए इसी बात का समर्थन किया है^४। दण्डी के महाराष्ट्री को 'प्रकृत प्राकृत' कहने के वाद ही से विशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृत' शब्द को छोड़ कर केवल प्राकृत शब्द का भी प्रयोग हेमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डी के पीछे के ही विद्वानों ने, कहीं कहीं किया है। पंडितजी ने वररुचि के समय से लेकर पीछले आचार्यों का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का व्यवहार करने की जो बात उक्त टिप्पणी में ही लिखी है उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने न तो वररुचि का ही व्याकरण देखा है और न उनके पीछे के आचार्यों के ही ग्रन्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की है, क्योंकि वररुचि ने तो 'शेष महाराष्ट्रीवत्' (प्राकृतप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस अर्थ में महाराष्ट्री शब्द का ही प्रयोग किया है, न कि प्राकृत शब्द का। आचार्य हेमचन्द्र ने भी कुमारपालचरित में 'पाह्याहि भासाहि' (१, १) में बहुवचन का निर्देश कर और देशीनाममाला (१, ४) में 'विशेष' शब्द लगाकर 'प्राकृत' का प्रयोग साधारण

१. 'आर्षं प्राकृतं बहुल भवति । तदपि यथास्थानं दर्शयिष्याम' । आर्षे हि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते' (हे० पृ० १, ३) ।
२. देखो, हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण के १, ४६, १, ५७, १, ७६, १, ११८, १, ११६, १, १५१, १, १७७, १, २२८, १, २५४, २, १७, २, २१, २, ८६, २, १०१, २, १०४, २, १४६, २, १७४, ३, १६२, और ४, २८७ सूत्रों की व्याख्या ।
३. 'ऊपरना वषा उल्लेखोमा वपरयेनो 'प्राकृत' शब्द प्राकृत भाषानो सूचक छे, अनुयोगद्वारमा 'प्राकृत' शब्द प्राकृत भाषाना प्रथमा वपरयेनो छे. (पृ० १२१ स०) । वैयाकरण वररुचिना समयथी तो ए शब्द ज अर्थमा वपरतो आव्यो छे; अने ए पछीना आचार्योए पण ए शब्दने ए ज अर्थमा वापरेलो छे, माटे कोईए ग्रंथो ए शब्दने मरडवो नहो ।' (प्राकृत-व्याकरण, प्रवेश, पृष्ठ २६ टिप्पणी) ।
४. 'महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृत प्राकृत विदु' (काव्यादर्श १, ३४) ।

लोक-भाषा के ही अर्थ में ही किया है। आचार्य दण्डी और हेमचन्द्र ही नहीं, बल्कि ख्रिस्त की नववीं शताब्दी के कवि राजशेखर^१, ग्यारहवीं शताब्दी के नमिसायु^२, उन्नीसवीं शताब्दी के प्रेमचन्द्रतर्कवागीश प्रभृति^३ प्रभूत जैन और जैनेतर विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह जब यह अध्रान्त सत्य है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक प्राकृत शब्द प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवहृत होता आया है और इसका मुख्य और प्राचीन अर्थ साधारणतः सभी और विशेषतः कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आचार्यों द्वारा भगवान् महावीर की उपदेश-भाषा के और उनके समसामयिक शिष्य सुधर्मस्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की भाषा के ही अभिप्राय में प्रयुक्त किए हुए 'प्राकृत' शब्द का 'अर्ध-मागध-प्रदेश (जहाँ भगवान् महावीर और सुधर्मस्वामी का उपदेश और विचरण होना प्रसिद्ध है) की लोक-भाषा (अर्धमागधी)' इस सुसगत अर्थ को छोड़ कर मागध से सुदूरवर्ती प्रदेश 'महाराष्ट्र (जहाँ न तो भगवान् महावीर का और न सुधर्मस्वामी का ही उपदेश या विहार होना जाना गया है) की भाषा (महाराष्ट्री)' यह असगत अर्थ लगाना, अपनी हीन विवेचना-शक्ति का परिचय देना है। इसी सिलसिले में पंडितजी ने अनुयोगद्वारा सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की है। यदि उक्त पंडितजी अनुयोगद्वारा की गाथा के पूर्वार्ध का यहाँ पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा के मूल स्थान को ढूँढ पाते और वे प्राकृत शब्द से जिस भाषा (महाराष्ट्री) का ग्रहण करते हैं इसके और प्राचीन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा के इतिहास को न जानते हुए भी सिर्फ उत्तरार्ध-सहित इस गाथा पर ही प्रकरण-संगति के साथ जरा गौर से विचार करने का ऋण उठाते, तो हमारा यह विश्वास है कि वे कम से कम इस गाथा का यहाँ हवाला देने का साहस और अनुयोगद्वारा के कर्त्ता पर अधमागधी के विरमरण का व्यङ्ग-वाण छोड़ने की धृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्योंकि इस गाथा का मूल स्थान है तृतीय अंग-ग्रन्थ जिसका नाम स्थानाङ्ग-सूत्र है। इसी स्थानाङ्ग-सूत्र के सम्पूर्ण स्वर-प्रकरण को अनुयोगद्वारा-सूत्र में उद्धृत किया गया है जिसमें वह गाथा भी शामिल है। वह सम्पूर्ण गाथा इस तरह है —

“सकृता पागता चैव दुहा भणिएँथो आहिया । सरमडलम्मि गिज्जते पमत्था इत्तिभासिता ॥”

इसका शब्दार्थ है—“सकृत और प्राकृत ये दो प्रकार की भाषाएँ कही गई हैं, गये जाते स्वर-समूह (पड्ज-प्रभृति) में ऋषिभाषिता—आर्ष भाषा प्रशस्त है।” यहाँ पर प्रकरण है सामान्यतः गीत की भाषा का। वर्तमान समय की तरह उस समय भी सभी भाषाओं में गीत होते थे। इससे यहाँ पर इन सभी भाषाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिप्रेत है जो उन्होंने सकृत—व्याकरण-संस्कार युक्त भाषा और प्राकृत—व्याकरण-संस्कार-रहित—लोक-भाषा इन दो मुख्य विभागों में किया है। इस तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में जो प्रशस्त है वह 'ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से बताई गई है। यदि यहाँ पर प्राकृत शब्द का 'प्रादेशिक लोक-भाषा' यह सामान्य अर्थ न लेकर पंडितजी के कथनानुसार 'महाराष्ट्री' यह विशेष अर्थ लिया जाय तो गीत की सभी भाषाओं का निर्देश, जो सूत्रकार का करना आवश्यक है, कैसे हो सकता है? क्या उस समय अन्य लोक-भाषाओं में गीत होते ही न थे? गीत का ठेका क्या सकृत और महाराष्ट्री इन दो भाषाओं को ही मिला हुआ था? यह कभी सभावित नहीं है। इसी गाथा के उत्तरार्ध के “पसत्था इत्तिभासिता” इस वचन से अर्धमागधी की सूचना ही नहीं, बल्कि उसका श्रेष्ठपन भी सूत्रकार ने स्पष्ट रूप में बताया है। इससे पंडितजी के उस कथन में कुछ भी सत्याश नजर नहीं आता है, जो उनसे सूत्रकार के अर्धमागधी की अलग सूचना न करने के बारे में किया गया है।

जैसे बौद्धसूत्रों की मागधी (पालि) से नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों में निदिष्ट मागधी भिन्न है वैसे जैन सूत्रों की अर्धमागधी से नाट्य-शास्त्र की या प्राकृत व्याकरणों की अर्धमागधी भी अलग है। इससे बौद्धसूत्रों की मागधी नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जैसे महाराष्ट्री न कही जाकर मागधी कही जाती है वैसे जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा भी नाट्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों की अर्धमागधी से समान न होने की वजह से ही महाराष्ट्री न कही जाकर अर्धमागधी ही कही जा सकती है।

१ 'पस्सो सककम्र वधो पाठम-वधोवि होइ सुउमारो' (कर्पूरमञ्जरी, अङ्क १)।

२ 'सूरसेन्यपि प्राकृतभाषैव, तथा प्राकृतमेवापन्न श' (काव्यालङ्कार-टिप्पण २, १२)।

३ 'सर्वामामेव प्राकृतभाषाणा'—(काव्यादर्श-टीका १, ३३), 'तादृशोत्पत्तेन देशनामोपलक्षिता सर्वा एव भाषा प्राकृतसन्नयोच्यन्ते इति सूचितम्' (काव्यादर्श-टीका १, ३५)।

भरत-रचित कहे जाते नाट्य-शास्त्र में जिन सात भाषाओं का उल्लेख है उनमें एक अर्धमागधी भी है।^१ इसी नाट्यशास्त्र में नाटकों के नौकर, राजपुत्र और श्रेष्ठी इन पात्रों के लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है। इससे नाटकों में इन पात्रों की जो भाषा है वह अर्धमागधी कही जाती है। परन्तु नाटकों की अर्धमागधी और जैन सूत्रों की अर्धमागधी में परस्पर समानता की अपेक्षा इतना अधिक भेद है कि यह एक दूसरे से अभिन्न कभी नाटकीय अर्धमागधी नहीं कही जा सकती। मार्कण्डेय ने अपने प्राकृत-व्याकरण में मागधी भाषा के लक्षण बताकर उसी जैन-सूत्रों की अर्धमागधी प्रकरण के शेष में अर्धमागधी भाषा का यह लक्षण कहा है—“शौरसेन्या भद्ररत्वादियमेवाधमागधी”^२ से भिन्न है अर्थात् शौरसेनी भाषा के निकट-वर्ती होने के कारण मागधी ही अर्धमागधी है। इस लक्षण के अनन्तर उन्होंने उक्त नाट्य-शास्त्र के उस वचन को उद्धृत किया है, जिसमें अर्धमागधी के प्रयोगार्ह पात्रों का निर्देश है और इसके बाद उदाहरण के तौर पर वेणोसहार की राज्ञसी की एक उक्ति का उल्लेख कर अर्धमागधी का प्रकरण खतम किया है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भरत का अर्धमागधी-विषयक उक्त वचन और मार्कण्डेय का अर्धमागधी-विषयक उक्त लक्षण नाटकीय अर्धमागधी के लिए ही रचित है, जैन सूत्रों की अर्धमागधी के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। क्रमदीश्वर ने अपने प्राकृत-व्याकरण में अर्धमागधी का जो लक्षण किया है वह यह है—“महाराष्ट्रीमिश्राधमागधी” अर्थात् महाराष्ट्री से मिश्रित मागधी भाषा ही अर्धमागधी है। जान पड़ता है, क्रमदीश्वर का यह लक्षण भी नाटकीय अर्धमागधी के लिए ही प्रयोज्य है, क्योंकि उक्त नाट्यशास्त्र में जिन पात्रों के लिए अर्धमागधी के प्रयोग का नियम बताया गया है, अनेक नाटकों में उन पात्रों की भाषा भिन्न-भिन्न है।^३ संभवतः इसी भिन्नता के कारण ही क्रमदीश्वर ने और मार्कण्डेय ने अर्धमागधी के भिन्न-भिन्न लक्षण किए हैं।

जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैन सूत्रों की अर्धमागधी में इतर भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री के लक्षण अधिक देखने में आते हैं। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि ये लक्षण साहित्यिक महाराष्ट्री से जैन अर्धमागधी में नहीं आये हैं। इसका कारण यह है कि जैन सूत्रों की अर्धमागधी भाषा साहित्यिक महाराष्ट्री भाषा से अधिक प्राचीन है और इससे यही (अर्धमागधी) महाराष्ट्री का मूल कही जा सकती है।^४ डॉ. हॉर्नलि ने जैन अर्धमागधी महाराष्ट्री से अर्धमागधी को ही आर्य प्राकृत कहकर इसीको परवर्ती काल में उत्पन्न नाटकीय अर्धमागधी, महाराष्ट्री और प्राचीन है शौरसेनी भाषाओं का मूल माना है। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री नाम न दे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिए हैं और उनके उदाहरण साधारण तौर से अर्वाचीन महाराष्ट्री-साहित्य से उद्धृत किये हैं, परन्तु जहाँ अर्धमागधी के प्राचीन जैन ग्रन्थों से उदाहरण लिए हैं वहाँ इसको आर्य प्राकृत का विशेष नाम दिया है। इससे प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने भी एक ही भाषा के प्राचीन रूप को आर्य प्राकृत और अर्वाचीन रूप को महाराष्ट्री मानते हुए आर्य प्राकृत को महाराष्ट्री का मूल स्वीकार किया है।

नाटकीय अर्धमागधी में मागधी भाषा के लक्षण अधिकांश में पाये जाते हैं इससे ‘मागधी से ही अर्धमागधी भाषा की उत्पत्ति हुई है और जैन सूत्रों की भाषा में मागधी के लक्षण अधिक न मिलने से वह अर्धमागधी कहलाने योग्य नहीं’ यह जो भ्रान्त सन्सार कई लोगों के मन में जमा हुआ है, उसका मूल है अर्धमागधी शब्द को मागधी भाषा के अर्थात्

१ “मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरमेन्यधमागधी । नाह्रीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ” (१७, ४८) ।

२ “चेदाना राजपुत्राणां श्रेष्ठिना चार्धमागधी” (भरतीय नाट्यशास्त्र, निर्णयसागरीय संस्करण, १७, ५०) ।

मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में इस विषय में भरत का नाम देकर जो वचन उद्धृत किया है वह इस तरह है—“राक्षसी श्रेष्ठिचेदानुकम्पदिरधमागधी” इति भरत ” यह पाठान्तर ज्ञात होता है ।

३. प्राकृतसर्वस्व (पृष्ठ १०३) ।

४. सक्षिप्तसार (पृष्ठ ३८) ।

५. देखो, भास-रचित कहे जाते ‘चारुदत्त’ और ‘स्वप्नवासदत्त’ में क्रमशः चेट तथा चेटो की भाषा और शूद्रक के ‘मृच्छकटिक’ में चेट और श्रेष्ठी चन्दनदास की भाषा ।

६. “It thus seems to me very clear, that the Prākṛit of Chanda is the ARSHA or ancient (Purana) form of the Ardhamāgadhī, Mahārāshtrī and Sauraseni.” (Introduction to Prākṛita Lakshana of Chanda, Page XIX)

मे ग्रहण करना, अर्थात् 'अर्ध मागध्या' यह व्युत्पत्ति कर 'जिसका अर्धांश मागधी भाषा वह अर्धमागधी' ऐसा करना। वस्तुतः अर्धमागधी शब्द की न वह व्युत्पत्ति ही सत्य है और न वह अर्थ ही। अर्धमागधी शब्द अर्धमागधी शब्द की वास्तविक व्युत्पत्ति है 'अर्धमागधस्येयम्' और इसके अनुसार इसका अर्थ है 'मगध देश के अर्धांश सगत-व्युत्पत्ति की जो भाषा वह अर्धमागधी'। यही बात ख्रिस्त की सातवीं शताब्दी के ग्रन्थकार श्रीजिनदासगणि महत्तर ने निधीथचूर्णि नामक ग्रन्थ में 'पोरणमद्वमागहभासानिय हवइ सुत' इस उल्लेख के 'अर्धमागध' शब्द की व्याख्या के प्रसङ्ग में इन स्पष्ट शब्दों में कही है — "मगहद्विसयभासानिवद अद्वमागह" अर्थात् मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण प्राचीन सूत्र 'अर्धमागध' कहा जाता है।

परन्तु, अर्धमागधी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगध अथवा मगध और शूरसेन का मध्यवर्ती प्रदेश (अयोध्या) होने पर भी जैन अर्धमागधी में मागधी और शौरसेनी भाषा के विशेष लक्षण देखने में नहीं आते। महाराष्ट्री के साथ ही इसका अधिक सादृश्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस सादृश्य का कारण क्या है? सर प्रियर्सन ने जैन अर्धमागधी का अपने प्राकृत-भाषाओं के भौगोलिक विवरण में यह स्थिर किया है कि जैन अर्धमागधी मध्यदेश (शूरसेन) और मगध के मध्यवर्ती देश (अयोध्या) की भाषा थी एवं आधुनिक पूर्वीय हिन्दी उससे उत्पन्न हुई है। किन्तु हम देखते हैं कि अर्धमागधी के लक्षणों के साथ मागधी, शौरसेनी और आधुनिक पूर्वीय हिन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु महाराष्ट्री प्राकृत और आधुनिक मराठी भाषा के साथ उसका सादृश्य अधिक है। इसका कारण क्या? किसीने अभी तक यह ठीक-ठीक नहीं बताया है। यह सम्भव है, जैसा हम पाटलिपुत्र के सम्मेलन के प्रसंग में ऊपर कह आये हैं, चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में (ख्रिस्त-पूर्व ३१०) बारह वर्षों के अकाल के समय जैन मुनि-सघ पाटलीपुत्र से दक्षिण की ओर गया था। उस समय वहाँ के प्राकृत के प्रभाव से अग ग्रन्थों की भाषा का कुछ कुछ परिवर्तन हुआ था। यहाँ महाराष्ट्री प्राकृत का आपे प्राकृत के साथ सादृश्य का कारण हो सकता है।

सर आर जि भाण्डारकर जैन अर्धमागधी का उत्पत्ति-समय ख्रिस्तीय द्वितीय शताब्दी मानते हैं। उनके मत में कोई भी साहित्यिक प्राकृत भाषा ख्रिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी से पहले की नहीं है। शायद इसी मत का अनुसरण कर डॉ सुनीतिकुमार चटर्जी ने अपनी Origin and Development of Bengalee Language नामक पुस्तक में उत्पत्ति-समय (Introduction, page 18) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का और जैन अर्धमागधी का उत्पत्ति-काल ख्रिस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु त्रिवेन्द्रम् से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते नाटकों का निर्माण-समय अन्ततः ख्रिस्त की दूसरी शताब्दी के बाद का न होने से और अश्वघोष-कृत बौद्ध-धर्म-विषयक नाटकों के जो कतिपय अंश डॉ ल्युडर्स ने प्रकाशित किए हैं उनका समय ख्रिस्त की प्रथम शताब्दी निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाटकीय प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं। और डॉ ल्युडर्स ने यह स्वीकार किया है कि अश्वघोष के नाटकों में जैन अर्धमागधी भाषा के निदर्शन हैं। इससे जैन अर्धमागधी की प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डॉ जेकोबी जैन सूत्रों की भाषा और मथुरा के शिलालेखों (ख्रिस्तीय सन् ८३ से १७६) की भाषा से यह अनुमान करते हैं कि जैन अग ग्रन्थों की अर्धमागधी का काल ख्रिस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का शेष भाग अथवा ख्रिस्त-पूर्व तृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है। हम डॉ. जेकोबी के इस अनुमान को ठीक समझते हैं जो पाटलिपुत्र के उस सम्मेलन से सगति रखता है जिसका उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं।

संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान-प्रधान भेद हैं, उनकी सक्षिप्त सूची महाराष्ट्री के प्रकरण में दी जायगी। यहाँ पर महाराष्ट्री से अर्धमागधी की जो मुख्य-मुख्य विशेषताएँ हैं उनकी सक्षिप्त सूची दी जाती है। उससे अर्ध मागधी के लक्षणों के साथ महाराष्ट्री के लक्षणों की तुलना करने पर यह अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है कि महाराष्ट्री की अपेक्षा अर्धमागधी की वैदिक और लौकिक संस्कृत से अधिक निकटता है जो अर्ध-मागधी की प्राचीनता का एक श्रेष्ठ प्रमाण कहा जा सकता है।

वर्ण-भेद

१ दो स्वरों के मध्यवर्ती असयुक्त क के स्थान में प्रायः सर्वत्र ग और अनेक स्थलों में त और य होता है, जैसे—
 ग—प्रत्य = पगव्य, प्राकर = प्रागर, प्राकाश = प्रागास, प्राकर = पगार, प्रावक = सावग, विवर्जक = विवजग, निषेवक = निषेवग,
 लोक = लौग, प्राकृति = प्रागइ।

त—आराधक = आराहृत (ठाणुगसूत्र—पत्र ३१७), सामायिक = सामातित (ठा० ३२२), विशुद्धिक = विशुद्धित (ठा० ३२२), अघिक = अहित (ठा० ३६३), शाकनिक = साउणित (ठा ३६३), नैषधिक = ऐसजित (ठा० ३६७), वीरासनिक = वीरासणित (ठा० ३६७), वर्धक = वडुति (ठा० ३६८), नैरयिक = नैरतित (ठा० ३६६); सीमतक = सीमतत (ठा० ४५८), नरकात् = नरतातो (ठा० ४५८), माडम्बिक = माडवित (ठा० ४५६), कौटुम्बिक = कौडु वित (ठा० ४५६), सचक्षुजेण = सचक्षुतेण (विपाकश्रुत—पत्र ५), कृणिक = कृणित (विपा० ५ टि), अन्तिकत् = अन्तिततो (विपा० ७), राहसिकेन = रहस्सितेण (विपा ४, १८) इत्यादि।
य—कायिक = काइय, लोक = लोय वगैरह।

२. दो स्वरो के बीच का असयुक्त ग प्राय कायम रहता है। कहीं-कहीं इसका त और य होता है, जैसे—आगम = आगम, आगमन = आगमण, आनुगामिक = आणुगामिय, आगमिष्यत् = आगमिस्स, जागर = जागर अगारिन् = अगारि, भगवन् = भगव, अतिग = अतित (ठा० ३६७), सागर = सायर।

३. दो स्वरो के बीच के असयुक्त च और ज के स्थान में त और य उभय ही होता है। च के उदाहरण, जैसे—नाराच = नारात् (ठा० ३५७), वचस् = वति (ठा० ३६८, ४५०), प्रवचन = पावतण (ठा० ४५१), कदाचित् = कयाती (विपा० १७, ३०), वाचना = वायणा, उपचार = उवयार, लोच = लोय, आचार्य = आयरिय। ज के कुछ निदर्शन ये हैं—भोजिन् = भोति (सूत्र० २, ६, १०), वज्र = वतिर (ठा० ३५७), पूजा = पूता (ठा० ३५८), राजेश्वर = रातीसर (ठा० ४५६), आत्मज = अत्तते (विपा० ४ टि), प्रजात = पयाय, कामध्वजा = कामध्वया, आत्मज = अत्तय।

४. दो स्वरो का मध्यवर्ती त प्राय कायम रहता है कहीं-कहीं इसका य होता है, यथा—वन्दते = वदति, नमस्यति = नमसति, पशुपास्ते = पञ्जुवासति (सूत्र २, ७, विपा—पत्र ६), जितेन्द्रिय = जितिदिय (सूत्र २, ६, ५), सतत = सतत (सूत्र १, १, ४, १२), भवति = भवति (ठा०—पत्र ३१७), अतरित = अतरित (ठा० ३४६), वैवत = वेवत (ठा० ३६३), जाति = जाति, आकृति = आगिति, विहरति = विहरति (विपा—४), पुरत = पुरतो, करोति = करेति (विपा० ६), तत = तते (विपा० ६, ७, ८), सदिसतु = सदिसतु, सलपति = सलवति (विपा० ७, ८), प्रभृति = पभिति (विपा० १५, १६), करतल = करयल।

५. स्वरो के बीच में स्थित द का द और त ही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं-कहीं य भी होता है, जैसे—
द—प्रदिश = पदिसो (आचा), भेद = भेद, अनादिक = अणादियं (सूत्र २, ७), वदत् = वदमाण, नदति = एदति, जनपद = जणपद, वेदिष्यति = वेदिहिती (ठा०—पत्र क्रमश ३२१, ३६३, ४५८, ४५६) इत्यादि।
त—यदा = जता, पाद = पात, निपाद = निसात, नदी = नती, मृपावाद = मुसावात, वादिक = वातित, अन्यदा = अन्नता, कदाचित् = कताती (ठा०—पत्र क्रमश ३१७, ३४६, ३६३, ३६७, ४५०, ४५१, ४५८, ४५६), यदि = जति, चिरादिक = चिरातीत (विपा० पत्र ४) इत्यादि।

य—प्रतिच्छादन = पडिच्छायण, चतुष्पद = चउप्पय वगैरह।

६. दो स्वरो के मध्य में स्थित प के स्थान में प्राय सर्वत्र व ही होता है, यथा—पापक = पावग, सलपति = सलवति, सोपचार = सोवयार, अतिपात = अतिवात, उपनीत = उवणीय, अष्ट्युपपन्न = अष्ट्युववण, उपशुद्ध = उवशुद्ध, आधिपत्य = आह्वय, तपक = तवय, व्यपरोपित = ववरोचित इत्यादि।

७. स्वरो के मध्यवर्ती य प्राय कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका त देखा जाता है, जैसे—

य—वायव = वायव, प्रिय = पिय, निरय = निरय, इन्द्रिय = इन्दिय, गायति = गायइ प्रभृति।

त—स्यात् = सिता, सामायिक = सामातित, कायिक = कातित, पालयिष्यन्ति = पालतिस्सति, पर्याय = परितात, नायन = शातण, गायति = गातति, स्थायिन् = ठाति, शायिन् = साति, नैरयिक = नैरतित (ठा० पत्र क्रमश ३१७, ३२२, ३२३, ३५७, ३५८, ३६३, ३६४, ३६७, ३६८, ३६६), इन्द्रिय = इन्दित (ठा० ३२२, ३५५) इत्यादि।

८. दो स्वरो के बीच के व के स्थान में व, त, और य होता है, यथा—

व—वायव = वायव, गौरव = गारव, भवति = भवति, अनुविचिन्त्य = अणुवीति (सूत्र १, १, ३, १३) इत्यादि।

त—परिवार = परिताल, कवि = कति (ठा० पत्र क्रमश ३५८, ३६३) इत्यादि।

य—परिवर्तन = परियट्टण, परिवर्तना = परियट्टणा (ठा० ३४६) वगैरह।

९. महाराष्ट्री में स्वर-मध्यवर्ती असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यञ्जनों का प्रायः सर्वत्र लोप होता है और प्राकृतप्रमाणा आदि प्राकृत-व्याकरणों के अनुसार इन लुप्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य कोई वर्ण नहीं होता। सेतुबन्ध, गाथासप्तशती और कर्पूरमञ्जरी आदि नाटकों की महाराष्ट्री भाषा में भी यह लक्षण ठीक-ठीक देखने में

आता है।- आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के अनुसार उक्त लुप्त व्यञ्जनों के दोनों तरफ अवर्ण (अ या आ) हाने पर लुप्त व्यञ्जन के स्थान में 'यु' होता है। 'गडडवहा' में यह 'यु' अधिक मात्रा में (उक्त व्यञ्जनों के पूर्व में अवर्ण-भन्न स्वर रहने पर भी) पाया जाता है। परन्तु जैन अर्धमागधी में, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, प्रायः उक्त व्यञ्जना के स्थान में अन्य व्यञ्जन होते हैं और कहीं कहीं तो वही व्यञ्जन कायम रहता है। हाँ, कहीं कहीं उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य व्यञ्जन हाने या वही व्यञ्जन रहने के बदले महाराष्ट्री का तरह लोप भा देखा जाता है, किन्तु यह लोप वहाँ पर ही देखने में आता है जहाँ उक्त व्यञ्जनों के बाद अ या आ से भिन्न कोई स्वर होता है, जैसे—लोक = लोओ, रोचित = रोइत, भोजिन् = भोइ, आतुर = आउर, आदेशि = आएशि, कायिक = काइय, आवेश = आएस वगैरह।

१०. शब्द के आदि में, मध्य में और सयोग में सर्वत्र ए की तरह न भी होता है, जैसे—नदी = नई, ज्ञातपूत्र = नायपुत्त, आरनाल = आरनाल, अनल = अनल, अनिल = अनिल, प्रज्ञा = पन्ना, अन्योन्य = अनमन्न, विज्ञ = विन्नु, सर्वज्ञ = सव्वन्नु इत्यादि।
११. एव के पूर्व क अम् के स्थान में आम् होता है, यथा—यामेव = जामेव, तामेव = तामेव, क्षिप्रमेव = खिप्पामेव, एवमेव = एवामेव, पूर्वमेव = पुव्वामेव इत्यादि।
१२. दीर्घ स्वर के बाद के इति वा के स्थान में ति वा और इ वा होता है, जैसे—इन्द्रमह इति वा = इदमहे ति वा, इदमहे इ वा इत्यादि।
१३. यथा और यावत् शब्द के य का लोप और ज दोनों ही देखे जाते हैं, जैसे—यथाख्यात = अहवखाय, यथाजात = अहाजात, यथानामक = जहाणामए, यावत्कथा = आवकहा, यावज्जीव = जावज्जीव।

वर्णागम

१. गद्य में भी अनेक स्थलों में समास के उत्तर शब्द के पहले म् आगम होता है, यथा—निरयगामी, उड्ड गारव, दीहगारव, रहस्मगारव, गोलमाइ, सामाइयमाइयाई, अजहएणमणुक्कोस, अदुक्कमसुहा आदि। महाराष्ट्री के पद्य में पादपूर्ति के लिए ही कहीं कहीं म् आगम देखा जाता है, गद्य में नहीं।

शब्द-भेद

१. अर्धमागधी में ऐसे प्रचुर शब्द हैं जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलब्ध नहीं होता, यथा—अज्भक्तियय, अज्भोव-पोरेवच्च, महत्तिमहालिया, वक्क, विचस इत्यादि।
२. ऐसे शब्दों की संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके रूप अर्धमागधी और महाराष्ट्री में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं —

अर्धमागधी	महाराष्ट्री	अर्धमागधी	महाराष्ट्री
अभियागम	अभ्यागम	तच्च (तध्य)	तच्छ
आउटण	आउचण	तेगिच्छा	चिइच्छा
आहरण	उआहरण	दुवालसग	वारसंग
उपि	उवरि, अवरि	दोच्च	दुइअ
क्रिया	किरिआ	नितिय	रिच्च
कीस, केस	केरस	निएय	रिअअ
केवच्चिर	किअच्चिर	पडुप्पन्न	पच्चुप्पण
गेहि	गिद्धि	पच्छेकम्म	पच्छाकम्म
चियत्त	चइअ	पाय (पात्र)	पत्त
छच्च	छक्क	पुडो (पृथक्)	पुहं, पिहं
जाया	जत्ता	पुरेकम्म	पुराकम्म
रिणण, रिणिण (नग्न)	रण्ण	पुण्वि	पुव्वं
रिणिणिण (नाग्न्य)	रण्णत्तण	माय (मान)	मत्त, मेत्त
तच्च (तृतीय)	तइअ	माहण	बम्हण

अर्धमागधी	महाराष्ट्री	अर्धमागधी	महाराष्ट्री
मिलक्खु, मेच्छ	मिलिच्छ	सीआण, सुसाण	मसाण
वग्गू	वाआ	सुमिण	सिमिण
वाहणा (उपानह्)	चवाणआ	सुहम, सुहम	सएह
सहेज्ज	सहाअ	सोहि	सुद्धि

और, दुवालस, बारस, तेरस, अउणवीसइ, वत्तीस, पण्तीस, इग्याल, तेयालीस, पणयाल, अढयाल, एणट्टि, बावट्टि तेवट्टि, छावट्टि, अढसट्टि, अउणत्तरि, बावत्तरि, पण्णत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीइ, वाणउइ प्रभृति सख्या-शब्दों के रूप अर्धमागधी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं।

नाम-विभक्ति

- अर्धमागधी में पुलिंग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकवचन में प्राय सर्वत्र ए और क्वचित् ओ होता है, किन्तु महाराष्ट्री में ओ ही होता है।
- सप्तमी का एक वचन त्सिं होता है जब महाराष्ट्री में म्मि।
- चतुर्थी के एक वचन में आए या आते होता है, जैसे—देवाए, सवणयाए, गमणाए, अट्टाए, अहिताते, असुभाते, अवमाते (ग० पत्र ३५८) इत्यादि महाराष्ट्री में यह नहीं है।
- अनेक शब्दों के तृतीया के एकवचन में सा होता है, यथा—मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा, बलसा, चक्खुसा, महाराष्ट्री में इनके स्थान में क्रमशः मणेण, वएण, काएण, जोगेण, बलेण, चक्खुणा।
- कम्म और धम्म शब्द के तृतीया के एक वचन में पालि की तरह कम्मणुणा और धम्मणुणा होता है, जब कि महाराष्ट्री में कम्मेण और धम्मेण।
- अर्धमागधी में तत् शब्द के पञ्चमी के बहुवचन में तेन्मो रूप भी देखा जाता है।
- गुण्मत् शब्द की पष्ठी का एकवचन संस्कृत की तरह तव और अस्मत् की पष्ठी का बहुवचन अस्माकं अर्धमागधी में पाया जाता है जो महाराष्ट्री में नहीं है।

आख्यात-विभक्ति

- अर्धमागधी में भूतकाल के बहुवचन में इषु प्रत्यय है, जैसे—पुच्छिषु, गच्छिषु, आभासिषु इत्यादि। महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है।

धातु-रूप

- अर्धमागधी में आइक्खइ, कुच्चइ, भुंवि, होक्खती, व्वाया, अक्खवी, होत्या, हुत्या, पहारेत्या, आधं, दुक्खइ, विगिचए, तिवायए, अकासी, तिउट्टइ, तिउट्टिजा, पडिसवयाति, सारयती, वेच्छिइ, समुच्छिहिति, आहसु प्रभृति प्रभूत प्रयोगों में धातु की प्रकृति, प्रत्यय अथवा ये दोनों जिस प्रकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं।

धातु-प्रत्यय

- अर्धमागधी में त्वा प्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं —
 (क) ट्ठ, जैसे—कट्ठ, साहट्ठ, अवहट्ठ इत्यादि।
 (ख) इत्ता, एत्ता, इत्ताए और एत्ताए, यथा—चइत्ता, विचइत्ता, पासित्ता, करेत्ता, पासित्ताए, करेत्ताए इत्यादि।
 (ग) इत्तु, यथा—दुक्खित्तु, जाणित्तु, वचित्तु प्रभृति।
 (घ) चा, जैसे—किचा, एचा, सोचा, भोचा, चेचा वगैरह।
 (ङ) इया, यथा—परिजाणिया, दुक्खिया आदि।
 (च) इनके अतिरिक्त विउक्कम्म, निम्म, त्तिमिच, सखाए, अणुवीति, लद्धु, लद्धूण, दिस्सा इत्यादि प्रयोगों में 'त्वा' के रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते हैं।
- तुम प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तते प्राय देवने में आता है, जैसे—करित्तए, गच्छित्तए, समुजित्तए, उवसानित्तते (विग० १३), विहरित्तए आदि।
- ऋकारान्त धातु के त् प्रत्यय के स्थान में उ होता है, जैसे—कड, मड, अमिहड, वावड, सवुड, वियड, वित्तपड प्रभृति।

तद्धित

१. तर प्रत्यय का तराय रूप होता है, यथा—अणित्तराय, अण्यतराय, बहुतराय, कंततराय इत्यादि ।
२. आलसो, आलसतो, गोमी, बुसिम, भगवतो, पुरत्थिम, पचत्थिम, ओयसी, दोसिणो, पोरेवच आदि प्रयोगों में मत्तुप् और अन्य तद्धित प्रत्ययों के जैसे रूप जैन अर्धमागधी में देखे जाते हैं, महाराष्ट्री में वे भिन्न तरह के हात हैं ।

महाराष्ट्री से जैन अर्धमागधी में इनके अतिरिक्त और भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं, जिनका उल्लेख विरतार-भय से यहाँ नहीं किया गया है ।

(५) जैन महाराष्ट्री

जैन सूत्र ग्रन्थों के सिवा श्वेताम्बर जैनों के रचे हुए अन्य ग्रन्थों की प्राकृत भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया नाम-निर्देश और साहित्य गथा है । इस भाषा में तीर्थंकर और प्राचीन मुनियों के स्तुति आदि विषयों का विशाल साहित्य विद्यमान है ।

प्राकृत के प्राचीन व्याकरणों ने 'जैन महाराष्ट्री' यह नाम देकर किसी भिन्न भाषा का उल्लेख नहीं किया है । किन्तु आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने व्याकरण, काव्य और नाटक-ग्रन्थों में महाराष्ट्री का जो रूप देखा जाता है उससे श्वेताम्बर जैनों के ग्रन्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर इसका 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है । इस भाषा में प्राकृत-व्याकरणों में बताये हुए महाराष्ट्री भाषा के लक्षण विशेष रूप से मौजूद होने पर भी जैन अर्धमागधी का बहुत-कुछ प्रभाव देखा जाता है ।

जैन महाराष्ट्री के कतिपय ग्रन्थ प्राचीन हैं । यह द्वितीय स्तर के प्रथम युग के प्राकृतों में स्थान पा सकती है । पयसा ग्रन्थ, नियुक्तियों, पवमचरिअ, उपदेशमाला प्रभृति ग्रन्थ प्रथम युग की जैन महाराष्ट्री के उदाहरण हैं । वृहत्कल्प-भाष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्य, विशेषावश्यक भाष्य, निशीथचूर्णि, धर्मसग्रहणी, समराइच्चकहा प्रभृति ग्रन्थ मध्य युग और शेष-युग में रचित होने पर भी इनकी भाषा प्रथम युग की जैन महाराष्ट्री के समान है । दशम शताब्दी के बाद रचे गये प्रवचन-सारोद्धार, उपदेशपदटीका, सुपासनाहचरिअ, उपदेशरहस्य प्रभृति ग्रन्थों की भाषा भी प्रायः प्रथम युग की जैन महाराष्ट्री के ही अनुरूप है । इससे यहाँ पर यह कहना होगा कि जैन महाराष्ट्री के ये ग्रन्थ आधुनिक काल में रचित होने पर भी उसकी भाषा, संस्कृत की तरह, अतिप्राचीन काल में ही उत्पन्न हुई थी और यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री क्रमशः परिवर्तित होकर मध्य-युग की व्यञ्जन-लोप-बहुल महाराष्ट्री में रूपान्तरित हुई हैं ।

अर्धमागधी के जो लक्षण पहले बताये गए हैं उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं । ऐसे लक्षणों में लक्षण कुछ ये हैं —

१. क के स्थान में अनेक स्थलों में ग ।
२. लुम व्यञ्जनों के स्थान में य् ।
३. शब्द के आदि और मध्य में भी ए की तरह न ।
४. यया और यावत् के स्थान में क्रमशः जहा और जाव की तरह गहा और गाव भी ।
५. समास में उत्तर पद के पूर्व में 'म्' का आगम ।
६. पाप, माप, तैगिञ्जग, पडुप्पण, साहि, सुहम, सुमिण आदि शब्दों का भी, पत्त, मेत्त, चेइञ्चय आदि की तरह प्रयोग ।
७. वृत्तीग के एकवचन में कहीं कहीं सा प्रत्यय ।
८. भाइस्सव, कुब्बद प्रभृति धातु-रूप ।
९. सोषा, किषा, वदिसु आदि त्वा प्रत्यय के रूप ।
१०. कड, वावड, संवुड, प्रभृति त-प्रत्ययान्त रूप ।

(६) अशोक-लिपि

सम्राट् अशोक ने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिलालेखों में खुदवाये थे। ये सब शिलालेख उस समय में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं। भाषा-साम्य की दृष्टि से ये सब शिलालेख ४४ प्रधानतः इन तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं —

- (१) पंजाब के शिलालेख। इनकी भाषा सस्कृत के अनुरूप है। इनमें र का लोप नहीं देखा जाता।
- (२) पूर्व भारत के शिलालेख। इनकी भाषा का मागधी के साथ सादृश्य देखने में आता है। इनमें र के स्थान में सर्वत्र व है।
- (३) पश्चिम भारत के शिलालेख। ये उज्जयिनी की उस भाषा में हैं जिसका पालि के साथ अधिक साम्य है। इन तीनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिन पर से इनका भेद अच्छी तरह समझ में आ सकता है।

सस्कृत	कपर्दीगिरि (पंजाब)	धौलि (उड़ीसा)	गिरनार (गुजरात)
देवानापियस्य	देवानपियस	देवानपियस	देवानपियस
राज्ञ	रणो	लजिने	रानो, रनो
वृषा	—	बुबनि	वच्छा
शुश्रूषा	शुश्रूषा	सुसुसा	सुसुसा
नास्ति	नास्ति, नास्ति	नाधि, नधि, नया	नास्ति

इन शिलालेखों का समय ख्रिस्त-पूर्व २५० वर्ष का है।

इन शिलालेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान् महावीर की एव सम्भवत बुद्धदेव की उपदेश-भाषा से ही हुई है।^१

(७) सौरसेनी

संस्कृत-नाटकों में प्राकृत गद्यांश सामान्य रूप से सौरसेनी भाषा में लिखा गया है। अश्वघोष के नाटकों में एक तरह की सौरसेनी के उदाहरण पाये जाते हैं, जो पालि और अशोकलिपि की भाषा के अनुरूप और पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनी की अपेक्षा प्राचीन है। भास के, कालिदास के और इनके बाद के अधिक नाटकों में सौरसेनी के निदर्शन देखे जाते हैं।

वररुचि, हेमचन्द्र, क्रमदीश्वर, लक्ष्मीधर और मार्कण्डेय आदि के प्राकृत व्याकरणों में सौरसेनी भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं।

वृण्डी, रुद्रट और चाग्मत आदि संस्कृत के अलंकारिकों ने भी इस भाषा का उल्लेख किया है।

भरत के नाट्यशास्त्र में सौरसेनी भाषा का उल्लेख है, उन्होंने नाटक में नायिका और सखियों के लिए इस भाषा विनियोग का प्रयोग बताया है।^२

भरत ने विदूषक की भाषा प्राच्या कही है, परन्तु मार्कण्डेय के व्याकरण में प्राच्या भाषा के जो लक्षण दिये गये हैं उनसे और नाटकों में प्रयुक्त विदूषक की भाषा पर से यह मालूम होता है कि सौरसेनी से इस भाषा (प्राच्या) का कुछ विशेष भेद नहीं है। इससे हमने भा प्रस्तुत कोष में उसका अलग उल्लेख न करके सौरसेनी में ही अन्तर्भाव किया है।

दिगम्बर जैनो के प्रवचनसार, द्रव्यसंग्रह प्रभृति ग्रन्थ भी एक तरह की सौरसेनी भाषा में ही रचित हैं। यह भाषा श्वेताम्बरों की अर्धभाषा और प्राकृत-व्याकरणों में निदिष्ट सौरसेनी के मिश्रण से बनी हुई है। इस भाषा को 'जैन सौरसेनी' नाम दिया गया है। जैन सौरसेनी मध्ययुग की जैन महाराष्ट्री की अपेक्षा जैन अर्द्धभाषा से अधिक निकटता रखती है और मध्ययुग की जैन महाराष्ट्री से प्राचीन है।

१ हाल ही मे डॉ० त्रिभुवनदास लहेरचंद ने अपने एक गुजराती लेख में अनेक प्रमाण और युक्तियों से यह सिद्ध किया है कि अशोक के शिलालेखों के नाम से प्रसिद्ध शिलालेख सम्राट् अशोक के नहीं, परन्तु जैन सम्राट् सप्रति के खुदवाये हुए हैं।

२. See Dr A B Keith's *Sanskrit Drama*, Page 87

३. "नायिकाना सखीनां च सौरसेनाविरोधिनी" (नाट्यशास्त्र १७, ५१)।

४. "प्राच्या विदूषकादीना" (नाट्यशास्त्र १७, ५१)।

सौरसेनी भाषा की उत्पत्ति^१ सूरसेन देश अर्थात् मथुरा प्रदेश से हुई है। वररुचि ने अपने व्याकरण में सस्कृत को ही सौरसेनी भाषा की प्रकृति अर्थात् मूल कहा है^२। किन्तु यह हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति सस्कृत से नहीं हुई है। सुतरा, सौरसेनी प्राकृत का मूल भी वैदिक या लौकिक सस्कृत नहीं है। सौरसेनी और सस्कृत ये दोनों ही वैदिक युग में प्रचलित सूरसेन प्रकृति अथवा मध्यदेश की कथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। सस्कृत भाषा पाणिनि-प्रभृति के व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होने के कारण परिवर्तन-हीन मृत-भाषा में परिणत हुई। वैदिक काल की सौरसेनी ने प्राकृत-व्याकरण द्वारा नियन्त्रित न होने के कारण क्रमशः परिवर्तित होते हुए पिछले समय की सौरसेनी भाषा का आकार धारण किया। पिछले समय की यह सौरसेनी भी बाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जरूरे जाने के कारण सस्कृत की तरह परिवर्तन-शून्य होकर मृत-भाषा में परिणत हुई है।

अश्वघोष के नाटकों में जिस सौरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं वह अशोकलिपि की सम-सामयिक कही जा सकती है। भास के नाटकों की सौरसेनी का और जैन सौरसेनी का समय सम्भवतः ख्रिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी मालूम होता है।

महाराष्ट्री भाषा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस-जिस अंश में भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा महाराष्ट्री भाषा के जो लक्षण उसके प्रकरण में दिये जायेंगे उनमें महाराष्ट्री के साथ सौरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन भेदों पर यह ज्ञात होता है कि अनेक स्थलों में महाराष्ट्री की अपेक्षा सौरसेनी का संस्कृत के साथ पार्थक्य कम और सादृश्य अधिक है।

वर्ण-भेद

१. स्वर वर्णों के मध्यवर्ती असयुक्त त और द के स्थान में व होता है, यथा—रजत = रजद, गदा = गदा।
२. स्वरों के बीच असयुक्त थ का ह और घ दोनों होते हैं, जैसे—नाथ = एाघ, एाह।
३. यं के स्थान में य्य और ञ होता है, यथा—प्रार्य = अय्य, अ्रञ्ज, सूर्य = सुय्य, सुञ्ज।

नाम-विभक्ति

१. पञ्चमी के एरुवचन में दो और दु ये दो ही प्रत्यय होते हैं और इनके योग में पूर्व के अकार का दीर्घ होता है, यथा—जिनात् = जिणादो, जिणाद्।

आख्यात

१. ति और ते प्रत्ययों के स्थान में दि और दे होता है, जैसे—हसदि, हसदे, रमदि, रमदे।
२. भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में त्सि लगता है, यथा—हसित्सिदि, करित्सिदि।

सन्धि

१. अन्य मकार के बाद इ और ए होने पर ए का वैकल्पिक आगम होता है, यथा—युक्तम इदम् = जुत्त एिमं, जुत्तमिमं, एवम् एतत् = एव एोद, एवमेदं।

कृदन्त

१. त्वा प्रत्यय के स्थान में इम, इण और ता होते हैं, यथा—पठित्वा = पठिम, पठिण, पठिता।

१. पञ्चवण्णासूत्र के “सोत्तियमइया (?मई य) चेदी वीयमय सिधुसोवीरा। महुरा य सूरसेणा पावा भंगी य मासपुखिवट्टा” (पत्र ६१)। इस पाठ पर “चेदिपु शुक्तिवावती, वीतमय सिधुषु, सौवीरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पापा, भङ्गै(?) ङ्गि)षु मासपुखिवट्टा” इन तरह व्याख्या करते हुए आचार्य मलयगिरि ने सूरसेन देश की राजधानी पावा बतलाकर आजकल के बिहार प्रदेश को ही सूरसेन कहा है। नेमिचन्द्रसूरि ने अपने प्रवचनसारोद्धारनामक ग्रंथ में पञ्चवण्णासूत्र के उक्त पाठ को भ्रविकल रूप में उद्धृत किया है। इसकी टीका में श्रीसिद्धसेनसूरि ने आचार्य मलयगिरि की उक्त व्याख्या को ‘भ्रतिव्यवहृत’ कहकर, उक्त मूल पाठ की व्याख्या इस तरह की है—‘शुक्तीमती नगरी चेदयो देश, वीतमय नगरं सिधुसौवीरा जनपद, मथुरा नगरी सूरसेनाख्यो देश, पापा नगरी भङ्गो देश, मासपुरी नगरी वती देश’ (दि० ला० सत्करण, पत्र ४४६)।

(८) मागधी

मागधी प्राकृत के सर्व-प्राचीन निदर्शन अशोक-साम्राज्य के उत्तर और पूर्व भागों के खालसी, मिरट, लौरिया (Lauriya), सहसराम, बराबर (Barabar), रामगढ, धौलि और जौगढ (Jaugadha) प्रभृति स्थानों के अशोक-शिलालेखों में पाये जाते हैं। इसके बाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व-प्राचीन नमूने अश्वघोष के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के नाटकों में, कालिदास के नाटकों में और मृच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं।

वररुचि के प्राकृतप्रकाश, चण्ड के प्राकृतलक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र (अष्टम अध्याय), क्रमदीधर के सक्षिप्त-सार, लक्ष्मीधर की षड्भाषाचन्द्रिका और मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व आदि प्रायः समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं।

भरत के नाट्यशास्त्र में मागधी भाषा का उल्लेख है और उन्होंने नाटक में राजा के अन्त पुर में रहनेवाले, सुरग खोदनेवाले, कलवार, अश्वपालक वगैरह पात्रों के लिए और विपत्ति में नायक के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है। परन्तु मार्कण्डेय द्वारा अपने प्राकृतसर्वस्व में उद्धृत किये हुए कोहल के "राजसमिभुक्षपणकचेठया मागधी प्राहु" इस वचन से मालूम होता है कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त भिक्षु, क्षपणक आदि अन्य लोग भी इस भाषा का व्यवहार करते थे। रुद्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र आदि आलंकारिकों ने भी अपने-अपने अलंकार-ग्रन्थों में इस भाषा का उल्लेख किया है।

मगध देश ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थान है। मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक के शिलालेखों में जो इसके निदर्शन पाये जाते हैं उसका कारण यह है कि मागधी भाषा उस समय राज भाषा होने के कारण मगध के बाहर भी इसका प्रचार हुआ था। सम्भवतः राज-भाषा होने के कारण ही नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्त पुर के लोगों के लिए इस भाषा का व्यवहार करने का नियम हुआ था। प्राचीन भिक्षु और क्षपणक भी मगध के ही निवासी होने से, सम्भव है, नाटकों में इनकी भाषा भी मागधी ही निर्दिष्ट की गई है।

वररुचि ने अपने प्राकृत व्याकरण में मागधी की प्रकृति—मूल होने का सम्मान सौरसेनी को दिया है। इसीका अनुसरण कर मार्कण्डेय ने भी सौरसेनी से ही मागधी की सिद्धि कही है। किन्तु मागधी और सौरसेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं का भेद अशोक के शिलालेखों में भी देखा जाता है। इससे यह सिद्ध है कि ये सब प्रादेशिक भेद प्राचीन और समसामयिक हैं, एक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सौरसेनी मध्यदेश में प्रचलित वैदिक युग की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है वैसे मागधी ने भी उस कथ्य भाषा से जन्म-ग्रहण किया है जो वैदिककाल में मगध देश में प्रचलित थी।

अशोक-शिलालेखों की और अश्वघोष के नाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के निदर्शन हैं। भास के और परवर्ती काल के अन्य नाटकों की और प्राकृत व्याकरणों की मागधी मध्य-युग की मागधी भाषा के उदाहरण हैं।

शाकरी, चाण्डाली और शिवरी ये तीन भाषाएँ मागधी के ही प्रकार-भेद—रूपान्तर हैं। भरत ने शाकरी भाषा का व्यवहार शबर, शक आदि और उसी प्रकृति के अन्य लोगों के लिए कहा है, किन्तु मार्कण्डेय ने राजा के सले की भाषा शाकरी बतलाई है। भरत पुस्तक आदि जातियों की व्यवहार-भाषा को चाण्डाली और अगरकार, व्याध,

१. "मागधी तु नरेन्द्राणामन्त पुरनिवासिनाम्" (नाट्यशास्त्र १७, ५०)।

"सुरङ्गाखनकादीना शुण्डकाराशरसिणाम् । व्यसने नायकाना स्यादात्मरसासु मागधी ॥" (नाट्यशास्त्र १७, ५६)।

२. "प्रकृति सौरसेनी" (प्राकृतप्रकाश ११, २)।

३. "मागधी शौरसेनीत" (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०१)।

४. "शबरारणा शकादीना तत्त्वभावथ यो गण । शकारभाषा योक्तव्या" (नाट्यशास्त्र १७, ५३)।

५. "शकारत्येय शाकरी, शकारथ

'राज्ञोऽज्ञाभ्राता श्यालस्त्वैश्वर्येषपन्न ।

मदमूर्खतामिमानी शकार इति दुष्कृतीन् स्यात्' इत्युक्ते" (प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०५)।

शाकरी आदि भाषाएँ मागधी के अन्तर्गत हैं कठहार और यन्त्र-जीवी लोगों की भाषा को शाकरी कहते हैं^१। इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण और उदाहरण मार्कण्डेय के प्राकृत व्याकरण में और नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते हैं उनमें और इतर प्राकृत-व्याकरणों की मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी-भाषा-भाषी पात्रों की भाषा में इतना कम भेद और इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से अलग नहीं कही जा सकती। यही कारण है कि हमने प्रस्तुत कोष में इन भाषाओं का मागधी में ही समावेश किया है।

सृच्छकटिक के पात्र माथुर और दो द्यूतकारों की भाषा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी मागधी भाषा का ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है। मार्कण्डेय ने 'ढक्की' को ही 'टाक्की' नाम से निर्देश किया है, यह उनके वहाँ पर उद्धृत किये हुए एक श्लोक से ज्ञात होता है^२। मार्कण्डेय ने पदान्त में उ, वृतीया के एरुवचन में ए, पञ्चमी के बहुवचन में हु

ढक्की या टाक्की
भाषा

आदि जो इस भाषा के लक्षण दिए हैं उनपर से इसमें अपभ्रंश का ही विशेष साम्य नजर आता है। इस लिए मार्कण्डेय ने वहाँ पर जो यह कहा है कि 'हरिश्चन्द्र इस भाषा को अपभ्रंश मानता है'^३ वह मत हमें भी सगत मालूम पड़ता है।

मागधी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा अन्य अंशों में मागधी लक्षण भाषा साधारणतः सौरसेनी के ही अनुरूप है।

वर्ण-भेद

१. र के स्थान में सर्वत्र ल होता है^४, यथा—नर = एल, कर = कल।
२. श, ष और स के स्थान में तालव्य श होता है, यथा—शोभन = शोहण, पुरुष = पुलिश, सारस = शारस।
३. सयुक्त ष और स के स्थान में दन्त्य सकार होता है, यथा—शुष्क = शुस्क, कष्ट = कस्ट, स्वलति = स्वलदि, बृहस्पति = ब्रुहस्पदि।
४. हृ और ष्ट के स्थान में स्ठ होता है, यथा—पष्ट = पस्ट, सुष्ठु = शुष्ठु।
५. स्थ और थ की जगह स्त होता है, जैसे—उपस्थित = उवस्तिद, साथ = शस्त।
६. ज, य और य के बदले य होता है, यथा—जानाति = याएदि, दुर्जन = दुय्यण, मद्य = मय्य, अद्य = अय्य, याति = यादि, यम = यम।
७. न्य, रय, न और ज के स्थान में न्न होता है, यथा—अन्य = अन्न, पुरय = पून्न, प्रजा = पन्ना, अन्नलि = अन्नलि।
८. अनादि छ के स्थान में क्ष होता है, यथा—गच्छ = गक्ष, पिच्छिल = पिखिल।
९. क्ष की जगह स्क होता है^५, जैसे—राक्षस = लक्षश, यक्ष = यस्क।

नाम-विभक्ति

१. अकारान्त पुलिग-शब्द के प्रथमा के एरुवचन में ए होता है, यथा—जिन, = यिणे, पुरुष = पुलिशे।
२. अकारान्त शब्द के पष्ठी का एकवचन स्स ओर आह होता है, यथा—जिनस्य = यिणस्स, यिणाह।
३. अकारान्त शब्द के पष्ठी के बहुवचन में आण और आहं ये दोनों होते हैं, जैसे—जिनानाम = यिणाण, यिणाहं।
४. अस्मन् शब्द के एरुवचन और बहुवचन का रूप ह्यो हाता है।

१ "चाण्डाली पुकसादिपु । अगारकरव्याधाना काष्ठयन्त्रोपजीविनाम् । योग्या शवरभाषा तु" (नाट्यशास्त्र १७, ५३-४)।

२ "प्रयुज्यते नाट्यद्वी द्यूतातिव्यवहारिणि ।
वरिण्गुभिर्हीनैर्द्वैध तदाहृष्टमभाषितम्" (प्राकृतसर्वस्व, ६४ ११०)।

३ "हरिश्चन्द्रस्त्विमा भाषामपभ्रंश इतीच्छति" (प्राकृतम० पृष्ठ ११०)।

४. मार्कण्डेय यह नियम वैश्विक मानते हैं, 'रस्य लो वा भवेत्' (प्राकृतस० पृष्ठ १०१)।

५. हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'क्ष' की जगह जिह्वामूलीय 'क्ष' होता है, देखो हे० प्रा० ४, २९६।

(९) महाराष्ट्री

प्राकृत काव्य और गीति की भाषा महाराष्ट्री कही जाती है। सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गडबवहो, कुमारपालचरित प्रभृति ग्रन्थों में इस भाषा के निदर्शन पाये जाते हैं। गाथा (गीति-साहित्य) में महाराष्ट्री प्राकृत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी कि बाद के नाटकों में गद्य में सौरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिए संगीत या पद्य में महाराष्ट्री भाषा का व्यवहार करने का रिवाज सा बन गया था। यही कारण है कि कालिदास से लेकर उसके बाद के सभी नाटकों में पद्य में प्रायः महाराष्ट्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है।

चण्ड ने अपने प्राकृतलक्षण में 'महाराष्ट्री' इस नाम का उल्लेख और इसके विशेष लक्षण न देकर भी आर्ष प्राकृत अथवा अर्धमागधी के और जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण भाव से इसके लक्षण दिए हैं। वररुचि ने अपने प्राकृत-व्याकरण में इस भाषा के 'महाराष्ट्री' नाम का उल्लेख किया है और इसके विशेष लक्षण और उदाहरण दिए हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 'महाराष्ट्री' नाम का निर्देश न कर 'प्राकृत' इस साधारण नाम से महाराष्ट्री के ही लक्षण और उदाहरण बताए हैं। क्रमदीश्वर का संक्षिप्तसार, त्रिविक्रम की प्राकृतव्याकरणसूत्रवृत्ति, लक्ष्मीधर की पडभाषाचन्द्रिका और मार्कण्डेय का प्राकृतसर्वस्व प्रभृति प्राकृत-व्याकरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं। चण्ड-भिन्न सभी प्राकृत व्याकरणों ने महाराष्ट्री का मुख्य रूप से विवरण दिया है और सौरसेनी, मागधी प्रभृति भाषाओं के महाराष्ट्री के साथ जो भेद हैं वे ही बतलाए हैं।

संस्कृत के अलंकार-शास्त्रों में भी भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भरत के नाट्य-शास्त्र में 'दाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिए गए हैं। संभवतः वह महाराष्ट्री भाषा ही हो सकती है, क्योंकि भरत ने महाराष्ट्री का अलग उल्लेख नहीं किया है। परन्तु मार्कण्डेय के प्राकृतसर्वस्व में उद्धृत प्राकृतचन्द्रिका के वचन में और प्राकृतसर्वस्व के खुद मार्कण्डेय के वचन में महाराष्ट्री और दाक्षिणात्या का भिन्न-भिन्न भाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। दण्डी के काव्यादर्श के -

'महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः ।

सागर सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥" (१, ३४) ।

इस श्लोक में महाराष्ट्री भाषा का और उसकी उत्कृष्टता का स्पष्ट उल्लेख है। दण्डी के समय में महाराष्ट्री प्राकृत का इतना उत्कर्ष हुआ था कि इसके परवर्ती अनेक ग्रन्थकारों ने केवल इस महाराष्ट्री के ही अर्थ में उस प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है जो सामान्यतः सर्व प्रादेशिक भाषाओं का वाचक है। रुद्रट का काव्यालंकार, वाग्भटालंकार, पाण्ड्यालंकार-नाममाला, हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण प्रभृति ग्रन्थों में महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द व्यवहृत हुआ है। अलंकार-शास्त्र-भिन्न पाण्ड्यालंकारनाममाला और देशीनाममाला इन कोष-ग्रन्थों में भी महाराष्ट्री के उदाहरण हैं।

डॉ. हॉर्नलि के मत में महाराष्ट्री भाषा महाराष्ट्र देश में उत्पन्न नहीं हुई है। वे मानते हैं कि महाराष्ट्री का अर्थ 'विशाल राष्ट्र की भाषा' है और राजपूताना तथा मध्यदेश प्रभृति इसी विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत हैं, इसीसे 'महाराष्ट्री' मुख्य प्राकृत कही गई है। किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट्र देश की ही भाषा कही है। सर प्रियर्सन के मत में महाराष्ट्री प्राकृत से ही आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राकृत का उत्पत्ति-स्थान महाराष्ट्र देश ही है यह बात निःसन्देह कही जा सकती है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में महाराष्ट्र को ही 'प्राकृत' नाम दिया है और इसकी प्रकृति संस्कृत कही है। इसी तरह चण्ड, लक्ष्मीधर, मार्कण्डेय आदि व्याकरणों ने साधारण रूप से सभी प्राकृत भाषाओं का मूल (प्रकृति) संस्कृत बताया है। किन्तु हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर आए हैं कि कोई भी प्राकृत भाषा संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वैदिक काल में भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित आर्यों की कथ्य भाषाओं

१. "शेषं महाराष्ट्रीवत्" (प्राकृतप्रकाश १२, ३२) ।

२. "महाराष्ट्री तथावन्ती सौरसेन्यर्धसागधी । वाहीकी मागधी प्राच्यत्यष्टौ ता दाक्षिणात्या ॥" (प्रा० सं० पृष्ठ २) ।

३. देखो प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ २ और १०४ ।

से ही सभी प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सुतरां महाराष्ट्र भाषा की उत्पत्ति प्राचीन काल के महाराष्ट्र-निवासी आर्यों की कथ्य भाषा से हुई है।

कौन समय आर्यों ने महाराष्ट्र में सर्व-प्रथम निवास किया था, इस बात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक के पहले प्राकृत भाषा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय में किसी का मत भेद नहीं है। उस समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित प्राकृत से क्रमशः काव्यीय और नाटकीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई है। प्राकृतप्रकाश का कर्ता वररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अभिन्न व्यक्ति हो तो यह स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्री ने अन्ततः ख्रिस्त-पूर्व दो सौ वर्ष के पहले ही साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री भाषा के तद्भव शब्दों में व्यञ्जन वर्णों के लोप की बहुलता देखने से यह विश्वास नहीं होता कि यह भाषा अतना प्राचीन है। वररुचि वा व्याकरण सम्भवतः ख्रिस्त के बाद ही रचा गया है। जैन अर्धभागवी और जैन महाराष्ट्री में महाराष्ट्री प्राकृत के प्रभाव का हमने पहले उल्लेख किया है। महाराष्ट्री भाषा में रचित जो मूल साहित्य इस समय पाया जाता है उसमें ख्रिस्त के बाद की महाराष्ट्री के ही निदर्शन देखे जाते हैं। प्राचीन महाराष्ट्र का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। प्राचीन महाराष्ट्री में वाद की महाराष्ट्री की तरह व्यञ्जन-वर्ण-लोप की अधिकता नहीं थी, इस बात के कुछ निदर्शन चण्ड के व्याकरण में मिलते हैं। जैन अर्धभागवी और जैन महाराष्ट्री में प्राचीन महाराष्ट्री भाषा का सादृश्य रक्षित है।

भरत ने नाट्यशास्त्र में आवन्ती और वाहलीकी भाषा का उल्लेख कर नाटकों में धूर्त पात्रों के लिए आवन्ती का भावन्ती और वाहलीकी और दूतकारों के लिए वाहलीकी का प्रयोग रूढ़ा है। मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में 'आवन्ती स्यान्महाराष्ट्रीशौरसेन्योस्तु संकरात्' और आवन्त्यामेव वाहलीकी किन्तु रस्यात्र लो भवेत्' यह कह कर इनका सक्षिप्त लक्षण-निर्देश किया है। मार्कण्डेय ने आवन्ती भाषा के जो त्वा के स्थान में तूप और भविष्यत् काल के प्रत्यय के स्थान में ल और ज्ञ प्रभृति लक्षण वतलाए हैं वे महाराष्ट्री के साथ साधारण हैं। उनके दिए हुए किराद, वेदत, पेच्छदि प्रभृति उदाहरणों में जो तकार के स्थान में दकार है वहाँ शौरसेनी के साथ इमका (आवन्ती का) सादृश्य है परन्तु वह भी सर्वत्र नहीं है, जैसे उनके दिए हुए होइ, सुव्वइ, लिजइ, भरणए आदि उदाहरणों में। इसी तरह वाहलीकी में जो र का ल होता है वही एकमात्र मागधी का सादृश्य है। इसके सिवा सभी अश्यों में यह भी आवन्ती की तरह महाराष्ट्री के ही सादृश्य है। सुतरां, ये दोनों भाषाएँ महाराष्ट्री के ही अन्तर्गत कही जा सकती हैं। इससे हमने भी इनका इस कोष में अलग निर्देश नहीं किया है।

संस्कृत भाषा के साथ महाराष्ट्री भाषा के वे भेद नीचे दिए जाते हैं जो महाराष्ट्री और संस्कृत के साथ अन्य प्राकृत लक्षण भाषाओं के सादृश्य और पार्थक्य की तुलना के लिए भी अधिक उपयुक्त हैं।

स्वर

- अनेक जगह भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, जैसे—समुद्धि = सामिद्धि, ईषत् = ईसि, हर = हीर, ध्वनि = भुणि, शय्या = शेज्या, पद्म = पोम्म, यथा = जह सवा = सइ, स्थान = थोण, सास्ना = सुएहा, आसार = ऊसार, श्राद्ध = शेज्फ, प्रातो = प्रोतो, इति = इअ, पथिन् = पइ, जिह्वा = जोहा, द्विवचन = दुवचण, पिरड = पॅड, द्विवाक्य = दोहाइअ, हरीतकी = हरडई, कश्मीर = कम्हार, पानीय = पाणिएअ, जीर्ण = जुएण, हीन = हूण, पीयूष = पेऊस, मुकुल = मऊल, भ्रुकुटि = भिउडि, क्षुत = क्षीअ, मूल = मूसल, तुण्ड = तोड, सूक्ष्म = सएह, उद्वयूढ = उव्वीढ, वातूल = वाउल, नूपूर = एउर, तूणीर = तोणीर, वेदना = विघणा, स्तेन = थूण, मनोहर = मणहर, गो = गउ, गाअ, सोच्छ्वास = सूमास।
- महाराष्ट्री में ञ, ऋ, लृ ये स्वर सर्वथा लुप्त हो गये हैं।
- अ के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर एव रि होता है, यथा—तृण = तण, मृदुक = माउकक, कृपा = किवा, मापु = माइ, माउ; वृनान्त = वृत्त, मृषा = मुसा, मूसा, मोसा, वृत्त = विट, वॅट, वोट, ऋतु = उउ, रिउ, ऋद्धि = रिद्धि, ऋक्ष = रिच्छ, सदृश = सरिस, हृत्न = दरिअ।
- ल ने स्थान में इति होता है, जैसे—कल्पत् = किलित्त, कल्पन = किलिएण।
- ऐ का प्रयोग भी प्रायः महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यत ए और विशेषत ब्रह होता है, यथा—दीन = सेल, ऐरावण = एरावण, वैद्य = वेज, वैद्यव्य = वेहव्व, सैन्य = सेएण, सइएण, कैलाश = केलास, कइलास, दैव = देव्व, दइव, ऐश्वर्य = अइसरिअ, दैन्य = देइएण।

६. श्री का व्यवहार भी प्रायः महाराष्ट्र में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः ओ और विशेष स्थलों में उ या अउ होता है, यथा—कौमुदी = कोमुई, यौवन = जोवण, दौवारिक = दुवारिक, पौलोमी = पुलोमी, कौरव = कउरव, गौड = गउड, सौष = सउह।

असंयुक्त व्यञ्जन

१. स्वरों के मध्यवर्ती क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यञ्जनों का प्रायः लोप होना है, जैसे क्रमशः—लोक = लोभ, नग = एग्न शची = सई, रजत = रभ्रम, यती = जई, गदा = गभा, वियोग = विभ्रोग लावण्य = लाभण्य।
२. स्वरों के बीच के ख, घ, थ, ध और भ के स्थान में ह होता है, यथा क्रमशः—शाखा = साहा, खाघते = लाहड, नाथ = एाह, साधु = साह, सभा = सहा।
३. स्वरों के बीच के ट का ड होता है, यथा—भट = भड घट = घड।
४. स्वरों के बीच के ठ का ड होता है, जैसे—मठ = मड, पठति = पडइ।
५. स्वरों के बीच के ड का ल प्रायः होता है, यथा—गरुड = गवल, तडाय = तलाभ।
६. स्वरों के बीच के त का अनेक स्थल में ड होता है, यथा—प्रतिभास = पडिहास, प्रभृति = पडुडि, व्याघ्रत = वावड, पताका = पडामा।
७. न के स्थान में सर्वत्र ए होता है, यथा—कनक = कणक, वचन = वभ्रण, नर = एर, नदी = एई, ग्रन्थ = भ्रण, दैन्य = दइरण।
८. दो स्वरों के मध्यवर्ती प का कहीं-कहीं व और कहीं-कहीं लोप होता है, यथा—शपथ = सवह, शाप = साव, उपसर्ग = उवसर्ग, रिपु = रिड, कपि = कड।
९. स्वरों के बीच के फ के स्थान में कहीं-कहीं भ, कहीं-कहीं ह और कहीं-कहीं ये दोनों होते हैं, यथा—रेफ = रेभ, शिफा = सिभा, मुक्ताफल = मुत्ताहल, सफल = सभल, सहल, शेफालिका = सेभालिभा, सेहालिभा।
१०. स्वरों के मध्यवर्ती व का व होता है, जैसे—भलाव = भलाव, सबल = सबल।
११. आदि के य का ज होता है, यथा—यम = जम, यशस् = जस, याति = जाइ।
१२. कृदन्त के अनीय और य प्रत्यय के य का ज होता है, जैसे—करणिय = करणज, पेय = पेज।
१३. अनेक जगह र का ल होता है, यथा—हरिदा = हलिदा, दरिद्र = दलिड, युधिष्ठिर = जुडिष्ठिल, भ्रगार = इंगाल।
१४. श और ष का सर्वत्र स होता है, यथा—शब्द = सद, विश्राम = वीसाम, पुरुष = पुरिस, सत्य = सास, शेष = सेस।
१५. अनेक जगह ह का घ होता है, यथा—दाह = दाघ, सिंह = सिघ, सहार = सघार।
१६. कहीं-कहीं श, ष और स का छ होता है, जैसे—शाव = छाव, पष्ठ = छड, सुधा = छुहा।
१७. अनेक शब्दों में स्वर सहित व्यञ्जन का लोप होता है, यथा—राजकुल = राडल, भ्रगत = आभ, कालायस = कालास, हृदय = हिड, पादपतन = पावडण, यावत् = जा, त्रयोदश = तेरह, स्थविर = थेर, बदर = बीर, कदल = केल, कर्णिकार = कणएर, चतुर्दश = चोदह, मयूख = मोह।

संयुक्त व्यञ्जन

१. क्ष के स्थान में प्रायः ख और कहीं-कहीं छ और भ होता है, जैसे—क्षय = खय, लक्षण = लखण, क्षति = अच्छि, क्षीण = क्षीण, भ्रण।
२. त्व, ध्व, ह और ध के स्थान में कहीं-कहीं क्रमशः च, छ, ज और भ होता है, यथा—ज्ञात्वा = एाचा, पुष्पी = पिच्छी, विद्वान् = विज, बुद्ध्वा = बुभ्भा।
३. ह्रस्व स्वर के परवर्ती ध्य, ख, त्स और प्स के स्थान में छ होता है, जैसे—पथ्य = पच्छ, पश्चात् = पच्छा, उत्साह = उच्छाह, अक्षरा = अच्छरा।

१. संस्कृत के 'अर्थि' शब्द का महाराष्ट्री में 'ऐ' होता है। इसके सिवा किसी किसी के मत में 'ऐ' तथा 'ओ' का भी प्रयोग होता है, जैसे—कैतव = कैभव, कौरव = कौरव (हे० प्रा० १, १)।

२. वररुचि के प्राकृत-व्याकरण के 'नो ए सर्वत्र' (२, ४२) सूत्र के अनुसार सर्वत्र 'न' का 'ए' होता है। सेतुवन्ध और गाय-शप्तशती में इसी तरह सार्वत्रिक 'ए' पाया जाता है। हेमचन्द्र आदि कई प्राकृत व्याकरणों के मत से शब्द के आदि के 'न' का विकल्प से 'ए' होता है, यथा—नदी = एई, नई, नर = एर, नर। गरुडवहो में एकार का वैकल्पिक प्रयोग देखा जाता है।

४. घ, ग्य और यं का ज होता है, यथा—मघ = मज्ज, जघ्य = जज्ज, कार्य = कज्ज ।
५. व्य और ह्य का झ होता है, यथा—घ्यान = भाण, साघ्य = सज्ज, गुह्य = गुज्ज, सघ्न = सज्ज ।
६. तं का प्राय ट होता है, जैसे—नतंकी = एट्टई, कैवतं = केवट्ट ।
७. ट के स्थान में ठ होता है, यथा—मुष्टि = मुट्टि, पुष्ट = पुट्ट, काष्ठ = कट्ट, इष्ट = इट्ट ।
८. म्न का ण होता है, यथा—निम्न = निणण, प्रद्युम्न = पज्जुणण ।
९. ञ का ण और ज होता है, जैसे—ज्ञान = णाण, जाण, प्रज्ञा = परणणा, पज्जा ।
१०. स्त का थ होता है, जैसे—हस्त = हत्थ, स्तोत्र = थोत्त, स्तोक = थोक ।
११. इम् और क्म का प होता है, यथा—कुड्मल = कुपल, रुक्मिणी = रुपिणी ।
१२. ष्य और स्व का फ होता है, यथा—पुष्य = पुष्फ स्पन्दन = पदण ।
१३. ह्य का भ होता है, यथा—जिह्वा = जिम्भा, विह्वल = विम्भल ।
१४. न्य और ग्म का म होता है, जैसे—जन्मन् = जम्म, मन्मथ = मम्मह, युग्म = जुज्ज, तिग्म = तिम्म ।
१५. श्म, ष्म, स्म और ह्य का म्ह होता है, यथा—काश्मीर = कम्हार, ग्रीष्म = गिम्ह, विस्मय = विम्हय, ब्राह्मण = बम्हण ।
१६. श्र, षण, ष, ह, लृ और क्षण के स्थान में एह होता है, यथा—प्रश्न = परह, उष्ण = उरह, स्नान = रहाण, वहि = वरिह, पूर्वाह्ण = पुष्वरह, तीक्ष्ण = तिरह ।
१७. ह्य का ल्ह होता है, यथा—प्रह्लाद = पल्हाअ, कहार = कल्हार ।
१८. सयोग में पूर्ववर्ती क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष और स का लोप होता है, जैसे—भुक्त = भुत्त, मुग्ध = मुद्ध, पटपद = छप्पअ, खड्ग = खग्ग, उत्पल = उप्पल, मुद्गर = मुग्गर, सुप्त = सुत्त, निश्चल = निष्चल, निष्पुर = निष्पुत्त, खलित = खलिअ ।
१९. सयोग में परवर्ती म, न और य का लोप होता है, यथा—स्मर = सर, लग्न = लग्ग, व्याघ = वाह ।
२०. सयोग में पूर्ववर्ती और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा—उल्का = उक्का, विक्रव = विक्रव, शब्द = सद्ध, पक्क = पक्क, अर्क = अक्क, चक्र = चक्क ।
२१. सयुक्त अक्षरों के स्थान में जो-जो आदेश ऊपर कहा है उसका और सयुक्त व्यञ्जन के लोप होने पर जो-जो व्यञ्जन बाकी रहता है उसका, यदि वह शब्द के आदि में न हो तो, द्वित्व होता है, जैसे—ज्ञात्वा = एत्त्वा, मन्त्र = मज्ज, भुक्त = भुत्त, उल्का = उक्का । परन्तु वह आदेश अथवा शेष व्यञ्जन यदि वर्ग का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो द्वित्व न होकर उसके पूर्व में आदेश अथवा शेष व्यञ्जन के अनन्तर-पूर्व व्यञ्जन का आगम होता है, यथा—लक्षण = लक्खण, पश्चात् = पच्छा, इष्ट = इट्ट, मुग्ध = मुद्ध ।

विश्लेषण

१. हं, शं, वं के मध्य में और सयोग में परवर्ती ल के पूर्व में स्वर का आगम होकर सयुक्त व्यञ्जनों का विश्लेषण किया जाता है, यथा—अहंत्वं = अरह, अरिह, अरह, आदशं = आयरिय, हर्षं = हरिस, क्लिष्टं = कलिट्ट ।

व्यत्यय

१. अनेक शब्दों में व्यञ्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा—करेणु = कणेरू, आलान = आणाल, महाराष्ट्र = मरहट्ट, हरिताल = हलिआर, लघुक्र = हलुअ, ललाट = एडाल, गुह्य = गुट्ट, सघ्न = सट्ट ।

सन्धि

१. समास में ऊर्ही-कहीं ह्रस्व स्वर के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व होता है, यथा—अन्तर्वेदि = अन्तावेद्द, पतिगृह = पट्टहर, यमुनातट = जंउणअट्ट, नदीस्रोत = एइसोत्त ।
२. स्वर पर रहने पर पूर्व स्वर का लोप होता है, जैसे—त्रिदेश = त्रिअसीस ।
३. सयुक्त व्यञ्जन का पूर्व स्वर ह्रस्व होता है, जैसे—आस्य = अस्स, मुनीन्द्र = मुणिएद, चूर्ण = चूरण, नरेन्द्र = एरिद, म्लेच्छ = मिलिच्छ, नीलोत्पल = एोलुप्पल ।

सन्धि-निषेध

१. उद्भूत (व्यञ्जन का लोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए) स्वर की पूर्व स्वर के साथ प्राय सन्धि नहीं होती है, यथा—निगाकर = निगाअर, रजनीकर = रजणीअर ।

२. एक पद में स्वरों की सन्धि नहीं होती है, जैसे—पाद = पाध, गति = गद्, नगर = एनर ।
३. इ, ई, और ऊ की, असमान स्वर पर रहने पर, सान्ध नहीं होती है, यथा—वर्गेवि भवयासो, दण्डो ।
४. ए और ओ की परवर्ती स्वर के साथ सन्धि नहीं होता है, यथा—फले भ्रावंबो, भालखिमो एरिह ।
५. आख्यात के स्वर की सान्ध नहीं होती है, जैसे—होइ इह ।

नाम-विभक्ति

१. अकारान्त पुलिग शब्द के एकवचन में ओ होता है, जैसे—जिन = जिणो, वृष = वृषो ।
२. पञ्चमी के एकवचन में तो ओ, उ, हि और लोप होना है और तो-भिन्न अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में अकार का आकार होता है, जैसे—जिनात् = जिणात्तो, जिणाओ जिणाउ जिणाहि, जिणा ।
३. पञ्चमी के बहुवचन का प्रत्यय तो. ओ. उ और हि होता है, एव तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के अ का आ होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यथा—जिणत्तो, जिणाओ जिणाउ, जिणाहि, जिणेहि ।
४. पञ्चमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान में हितो और बहुवचन के प्रत्यय के स्थान में हितो और सुतो इन स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग होता है, यथा—जिनात् = जिणा हितो, जिनेन्य = जिणा हित्तो, जिणे हित्तो, जिणा सुतो, जिणे सुतो ।
५. षष्ठी के एकवचन का प्रत्यय स्त होता है, यथा—जिणस्त, गुणस्त, तस्स ।
६. अस्मत् शब्द के प्रथमा के एकवचन के रूप म्मि, अम्मि अम्हि, ह, अह और अहय होता है ।
७. अस्मत् शब्द के प्रथमा के बहुवचन के रूप अम्ह, अम्हे, अम्हो, मो, वय और मे होता है ।
८. अस्मत् शब्द के षष्ठी का बहुवचन ऐ, णो, मज्ज, अम्ह, अम्हं अम्हे, अम्हो, अम्हाण, ममाण महाण और मज्जाण होता है ।
९. युष्मत् शब्द के षष्ठी का एकवचन तद्, तु, ते, तुम्ह तुह, तुद्, तुव, तुम, तुमो, तुमाद्, दि, दे, इ, ए, तुब्ब, तुम्ह, तुष्म उम्, उम्ह, उज्ज और उह् होता है ।

लिङ्ग व्यत्यय

१. संस्कृत में जो शब्द केवल पुलिग है, उनमें से कई एक महाराष्ट्री में स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग भी है, यथा—प्रश्न = पण्हो, पण्हो, गुणा = गुणो, गुणाइ, देवा = देवा, देवाणि ।
२. अनेक जगह स्त्रीलिङ्ग के स्थान में पुलिग होता है, यथा—शरत् = सरभो, प्रावृट् = पाउसो, विद्युता = विज्जुणा ।
३. संस्कृत के अनेक क्लीबलिङ्ग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्री में पुलिग और स्त्रीलिङ्ग में भी होता है, यथा—यश = जसो, जन्म = जम्मो, भ्रष्टि = भ्रच्छो, पृष्ठम् = पिट्ठो, चौर्यम् = चोरिआ ।

आख्यात

१. ति और ते प्रत्ययों के त का लोप होता है, जैसे—हसति = हवद्, हसए, रपते = रपद्, रमए ।
२. परस्मैपद और आत्मनेपद का विभाग नहीं है, महाराष्ट्री में सभी धातु उभयपदी की तरह हैं ।
३. भूतकाल के ह्यस्तन, अद्यतन और परोक्ष विभाग न होकर एक ही तरह के रूप होते हैं और भूतकाल में आख्यात की जगह त-प्रत्ययान्त कृदन्त का ही प्रयोग अधिक होता है ।
४. भविष्यत्-काल के भी संस्कृत की तरह अस्तन और भविष्यत् ऐसे दो विभाग नहीं हैं ।
५. भविष्यत्काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है, यथा—हसिष्यति = हसिहिद्, करिष्यति, = करिहिद् ।
६. वर्तमान काल के, भविष्यत्काल के और विधि-लिङ्ग अर्गेर आञ्जार्थक प्रत्ययों के स्थान में ञ्ज और ज्जा होता है, यथा—हसति, हसिष्यति, हसेत्, हसतु = हसेज्ज, हसेज्जा ।
७. भाव और कर्म में ईभ और इज्ज प्रत्यय होते हैं, यथा—हस्यते = हसीमइ, हसिज्ज ।

कृदन्त

१. शीलाचर्चक त्-प्रत्यय के स्थान में इर होता है, यथा—गन्तु = गमिर, नमनशील = एमिर ।
२. द्वा-प्रत्यय के स्थान में तुम्, अ, त्ण, तुघाण और ता होता है, जैसे—पठित्वा = पठिउ, पठिअ, पठिअण, पठिउमाण, पठिता ।

तद्धित

१. त्त-प्रत्यय के स्थान में त्त और त्तण होता है, यथा—देवत्त्व = देवत्त, देवत्तण ।

(१०) अपभ्रंश

महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि “भूयासोऽपशब्दा अल्पीयास. शब्दा । एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽपभ्रंशा , तद्यथा—गौरित्यस्स शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येवमादयोऽपभ्रंशा ” अर्थात् अपशब्द बहुत और शब्द (शुद्ध) थोड़े हैं, क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपभ्रंश हैं, जैसे ‘गौ’ इस शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश हैं।

यहाँ पर ‘अपभ्रंश’ शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवहृत है और अपशब्द का अर्थ भी ‘संस्कृत-व्याकरण से असिद्ध शब्द’ है, यह स्पष्ट है। उक्त उदाहरणों में ‘गावी’ और ‘गोणी’ ये दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन जैन-सूत्र-ग्रन्थों में पाया जाता है और चण्ड तथा आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राकृत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत-व्याकरणों में लक्षण-द्वारा सिद्ध किये हैं। दण्डी ने अपने काव्यादर्श में पहले प्राकृत और अपभ्रंश का अलग-अलग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवहृत आभीर-प्रभृति की भाषा को अपभ्रंश कही है और बाद में यह लिखा है कि ‘शास्त्र में संस्कृत भिन्न सभी भाषाएँ अपभ्रंश कही गई हैं’^१। यहाँ पर दण्डी ने शास्त्र शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभृति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतञ्जलि-प्रभृति संस्कृत-वैयाकरणों के मत में संस्कृत-भिन्न सभी प्राकृत-भाषाएँ अपभ्रंश के अन्तर्गत हैं, यह ऊपर के उनके लेख से स्पष्ट है। परन्तु प्राकृत-वैयाकरणों के मत में अपभ्रंश भाषा प्राकृत का ही एक अचान्तर भेद है। काव्यालंकार की टीका में नमिसाधु ने लिखा है कि “प्राकृतमेवापभ्रंश” (२, १२) अर्थात् अपभ्रंश भी शौरसेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि पतञ्जलि के समय में जिस अपभ्रंश शब्द का ‘संस्कृत-व्याकरण-असिद्ध (कोई भी प्राकृत)’ इस सामान्य अर्थ में प्रयोग होता था उसने आगे जाकर क्रमशः ‘प्राकृत का एक भेद’ इस विशेष अर्थ को धारण किया है। हमने भी यहाँ पर अपभ्रंश शब्द का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है।

अपभ्रंश भाषा के निदर्शन विक्रमोर्वशी, चर्माभ्युदय आदि नाटक-ग्रन्थों में, हरिवंशपुराण, पद्मचरित्र (स्वयंभूदेवकृत) निदर्शन भविसयत्तकहा, सजममजरी, महापुराण, यशोधरचरित, नागकुमारचरित, कथाकोश, पार्श्वपुराण, सुदर्शनचरित्र, करकडुचरित, जयतिहुप्रणस्तोत्र, विलासवईकहा, सणकुमारचरित्र, सुपासनाहचरित्र, कुमारपालचरित, कुमारपाल-प्रतिबोध, उपदेशतरंगिणी प्रभृति काव्यग्रन्थों में, प्राकृतलक्षण, सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण (अष्टम अध्याय), सक्षिप्तसार, पद्मभाषाचन्द्रिका, प्राकृतसर्वस्व वगैरह व्याकरणों में और प्राकृतपिङ्गल नामक छन्द-ग्रन्थ में पाये जाते हैं।

डॉ. हॉर्नल्लि के मत में जिस तरह आर्य लोगों की कथ्य भाषाएँ अनार्य लोगों के सुख से उच्चारित होने के कारण प्रकृति और समय जिस विकृत रूप को धारण कर पायी थीं वह पैशाची भाषा है और वह कोई भी प्रादेशिक भाषा नहीं है, उस तरह आर्यों की कथ्य भाषाएँ भारत के आदिम-निवासी अनार्य लोगों की भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त हुई थीं वे ही भिन्न-भिन्न अपभ्रंश भाषाएँ हैं और ये महाराष्ट्री की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। डॉ. हॉर्नल्लि के इस मत का सर ग्रियर्सन-प्रभृति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ भीकार नहीं करते हैं। सर ग्रियर्सन के मत में भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ साहित्य और व्याकरण में नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचलित होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी वे ही अपभ्रंश हैं। ये अपभ्रंश-भाषाएँ ख्रिस्तीय पञ्चम शताब्दी के घटत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती थीं, क्योंकि चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में और कालिदास की विक्रमोर्वशी में इसके निदर्शन पाये जाने के कारण यह निश्चित है कि ख्रिस्तीय पञ्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लगी थीं। ये अपभ्रंश भाषाएँ प्रायः दशम शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाएँ थीं। इसके बाद फिर जन-साधारण में अप्रचलित होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई वे ही हिन्दी, बगला, गुजराती वगैरह आधुनिक

१ ‘जोरीणियाग्रो गावीप्रो’। ‘गोण वियाल’ (भाषा २, ४, ५)।

‘एणरगावीप्रो’ (विषा १, २ पत्र २६)।

‘गोणीण सगेल’ (व्यवहारसूत्र, उ० ४)।

२ ‘गोवावी’ (प्राकृतलक्षण २, १६)। ३. ‘गोणादय’ (हे० प्रा० २, १७४)।

४ ‘भाषोरदिगिर काव्येव्वपभ्रंश इति स्मृता ।

शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदाभ्रंशतयोदितम्” (१, ३६)।

आर्य कथ्य भाषाएँ हैं। इनका उत्पत्ति-समय ख्रिस्त की नववीं या दसवीं शताब्दी है। सुतरां, अपभ्रंश-भाषाएँ ख्रिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्व से लेकर नववीं या दशवीं शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाओं के रूप में प्रचलित थीं। इन अपभ्रंश भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषाएँ हैं, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में इन अपभ्रंशों की उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रचलित थीं।

भेद

अपभ्रंश के बहुत भेद हैं, प्राकृतचन्द्रिका में इसके ये सताईस भेद बताये गए हैं।

“ब्राचडो लाटवैदर्भावुपनागरनागरो । बाबंरावत्यपाञ्चालटाक्कमालवकैकया ॥

गौडोद्वहेचपाथ्याएव्यकौन्तलसँहला । कालिगधप्राच्यकाण्टिकाण्यद्राविडगौर्जरा ॥

आभीरो मध्यदेशीय सूक्ष्मभेदव्यस्थिता । सप्तविंशत्यपभ्रंशा वैतालादिप्रभेदत ॥

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वश्व मे प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपभ्रंशों के जो लक्षण और उदाहरण उद्धृत किए हैं^१। वे इनने अपर्याप्त और अस्पष्ट हैं कि खुद मार्कण्डेय ने भी इनको सूक्ष्म कह कर नगण्य बताये हैं और इनका पृथग्-पृथग् लक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपभ्रंशों का नागर, ब्राचड और उपनागर इन तीन प्रधान भेदों मे ही अन्तर्भाव माना है। परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह सिद्ध है कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति स्थान भिन्न-भिन्न प्रदेश है और जिनकी प्रकृति भी भिन्न-भिन्न प्रदेश की भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषाएँ हैं तब वे अपभ्रंश भाषाएँ भी भिन्न-भिन्न ही हो सकती हैं और उन सब का समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता। वास्तव मे बात यह है कि वे सभी अपभ्रंश भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य मे निबद्ध न होने के कारण उन सब के निदर्शन ही उपलब्ध नहीं हो सकते थे। इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये हैं और न तो उदाहरण ही अधिक दे सके हैं। यही कारण है कि मार्कण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य-निबद्ध होने से निदर्शन पाये जाते हैं उनके लक्षण और उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने केवल अपभ्रंश के सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने अपभ्रंश के तीन विशेष नामों से दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने ‘अपभ्रंश’ इस सामान्य नाम से और मार्कण्डेय ने ‘नागरापभ्रंश’ इस विशेष नाम से जो लक्षण और उदाहरण दिये हैं वे राजस्थानी-अपभ्रंश या राजपूताना तथा गुजरात प्रदेश के अपभ्रंश से ही संबन्ध रखते हैं। ब्राचडापभ्रंश के नाम से सिन्धुप्रदेश के अपभ्रंश के लक्षण और उदाहरण मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण मे दिये हैं, और उपनागर-अपभ्रंश का कोई लक्षण न देकर केवल नागर और ब्राचड के मिश्रण को ‘उपनागर-अपभ्रंश’ कहा है। इसके सिवा सौरसेनी-अपभ्रंश के निदर्शन मध्यदेश के अपभ्रंश मे पाये जाते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी और पैशाची भाषाओं के जो अपभ्रंश थे उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से कोई निदर्शन भी नहीं पाये जाते हैं।

भिन्न-भिन्न अपभ्रंश भाषा का उत्पत्ति स्थान भी भारतवर्ष का भिन्न भिन्न प्रदेश है। रुद्रट ने और वाग्भट ने उत्पत्ति-स्थान अपने अपने अलङ्कार-ग्रन्थ मे यह बात सन्क्षेप मे अथच स्पष्ट रूप मे इस तरह कही है —

“षष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः” (काव्यालङ्कार २, १२)।

“अपभ्रंशस्तु यच्छुद्धं तत्तद्देशेषु भाषितम्” (वाग्भटालङ्कार २, ३)।

ख्रिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्व से लेकर दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश मे कथ्य भाषाओं के आधुनिक आर्य कथ्य रूप मे प्रचलित जिस जिस अपभ्रंश भाषा से भिन्न-भिन्न प्रदेश की जो जो आधुनिक आर्य कथ्य भाषाओं की प्रकृति भाषा (Modern Vernacular) उत्पन्न हुई है उसका विवरण यों है —

१. बगीयसाहित्यपरिषद्-पत्रिका, १३१७।

२. “टाक्क टक्कभाषानागरोपनागरादिभ्योऽवधारणियम् । तुबहुला मालवी । वाडीवहुला पाञ्चाली । उल्लभाया वैदर्भी । सवोपनाख्या लाटी । ईकारोकारवहुला श्रीढी । सवीप्सा कैकेयी । समासाख्या गौडी । उकारवहुला कौन्तली । एकारिणी च पाएव्या । युक्ताख्या सँहली । द्विपुक्ता कालिगी । प्राच्या तद्देशीयभाषाख्या । ज(भ)ट्टादिबहुलाऽऽभीरी वणविपयंयात् काण्टी । मध्यदेशीया तद्देशीयाख्या । संस्कृताख्या च गौर्जरी । चकारात् पूर्वोक्तकभाषाग्रहणम् । रत(ल)हमा व्यत्ययेन पाथात्या । रेफ व्यत्येन द्राविडी । ढकारवहुला वैतालिकी । एओवहुला काञ्ची । शेषा देशभाषाविभेदात् ।”

३. “नागरो ब्राचडबोपनागरश्चेति ते त्रय । अपभ्रंशा, परे सूक्ष्मभेदत्वान्न पृथङ् मता” (प्रा० स० पृष्ठ ३)। “ग्रन्थेषामपभ्रंशानामेवैवान्तर्भावः” (प्रा० स० पृष्ठ १२२)।

महाराष्ट्री-अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी भाषा ।
 मागधी-अपभ्रंश की पूर्व शाखा से बंगला, उड़िया और आसामी भाषा ।
 मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही और भोजपुरिया ।
 अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वीय हिन्दी भाषाएँ अर्थात् अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ।
 सौरसेनी-अपभ्रंश से बुन्देली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बोंगरू, हिन्दी या उर्दू ये पाश्चात्य हिन्दी भाषा ।
 नागर-अपभ्रंश से राजस्थानी, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा ।
 पालि से सिंहली और मालदीवन ।
 टाक्षी अथवा टाक्षी से लहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी ।
 टाक्षी-अपभ्रंश (सौरसेनी के प्रभाव-युक्त) से पूर्वीय पंजाबी ।
 ब्राचड-अपभ्रंश से सिन्धी भाषा ।
 पैशाची-अपभ्रंश से काश्मीरी भाषा ।

लक्षण नागर-अपभ्रंश के प्रधान लक्षण ये हैं —

वर्ण-परिवर्तन

- भिन्न-भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर होते हैं, यथा—कृत्य = कच, काच, वचन = वेण, वीण, बाहु = बाह, वाहा, बाहु, वृष्ट = पट्टि, पिट्टि, पुट्टि, वृण = तण, तिण, वृण, सुकृत्य = सुकिद, सुकृद, लेखा = लिह, लोह, जेह ।
- स्वरों के मध्यवर्ती असयुक्त क, ख, त, थ, प ओर फ के स्थान में प्रायः क्रमशः ग, घ, द, ध, व ओर भ होता है, यथा—
विच्छेदकर = विच्छोहगर, सुख = सुध, कथित = कधिद, शपथ = शवध, सफल = सभल ।
- अनादि और असयुक्त म के स्थान में वैकल्पिक सानुनासिक व होता है, यथा—कमल = कर्बल, कमल भ्रमर = भवँर, भमर ।
- सयोग में परवर्ती र का विकल्प से लोप होता है, यथा—प्रिय = पिय, प्रिय, चन्द्र = चन्द, चन्द्र ।
- कहीं कहीं सयोग के परवर्ती य का विकल्प से र होता है, जैसे—व्यास = वास, वास, व्याकरण = वागरण, वागरण ।
- महाराष्ट्री में जहाँ म् होता है वहाँ अपभ्रंश में म्भ ओर म्ह दोनों होते हैं, यथा—गोष्म = गिम्भ, गिम्ह, श्लेष्म = सिम्भ, सिम्ह ।

नाम-विभक्ति

- विभक्ति के प्रसंग में ह्रस्व रपर ऋ दीर्घ ओर दीर्घ ऋ ह्रस्व प्रायः होता है, यथा—रयामल = सामलः, सङ्गाः = खगः, दृष्टि = दिष्टि, पुत्री = पुत्ति ।
- साधारणतः सातो विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वे नाचे दिये जाते हैं । लिंग-भेद में ओर शब्द-भेद में अनेक विशेष प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये गए हैं ।

	एकवचन	बहुवचन
प्रथमा	उ, हो	०
द्वितीया	”	०
तृतीया	ए	हि
चतुर्थी	सु, हो, स्तु	ह, ०
पञ्चमी	हे, हू	हू
षष्ठी	सु, हो, स्तु	हं, ०
सप्तमी	ह, हि	हि

आख्यात विभक्ति

	एकवचन	बहुवचन
१.	१ पु०	उ
	२ पु०	हि
	३ पु०	ह, ए

- २ मध्यम पुरुष के एकवचन में आज्ञार्थ में इ, उ और ए होते हैं, यथा—कुरु = करि, कुरु, करे ।
३. भविष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में स आगम होता है, यथा—भविष्यति = होसइ ।

कृदन्त

१. तव्य-प्रत्यय के स्थान में इएव्वउ, एव्वउ और एवा होता है, यथा—कर्तव्य = करिएव्वउं, करेव्वउ, करेवा ।
२. त्वा के स्थान में इ, इउ, इवि, अवि, एप्पि, एप्पियु, एवि, एविण, होते हैं, यथा—कृत्वा = करि, करिउ, करिवि, करवि, करेप्पि, करेप्पियु, करेवि, करेवियु ।
३. तुम्-प्रत्यय की जगह एव, अण, अणह, अणहि एप्पि, एप्पियु, एवि, एविण होते हैं, यथा—कतुम् = करेव, करण, करणह कर-
णहि, करेप्पि, करेप्पियु, करेवि, करेवियु ।
४. शीलाद्यर्थक तु-प्रत्यय के स्थान में अणम होता है, जैसे—कतुम् = करणम, मारयितु = मारणम ।

तद्धित

१. त्व और ता के स्थान में प्पण होता है, यथा—देवत्व = देवप्पण, महत्त्व = महप्पण ।

हम पहले यह कह आये हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत के शब्दों के साथ तुलना करने पर जिस प्राकृत भाषा में वर्ण लोप-प्रभृति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, वह उतनी ही परवर्ती काल में उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार, हम देखते हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में व्यञ्जनों का लोप सर्वापेक्षा अधिक है, इससे वह अन्यान्य प्राकृत-भाषाओं के पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। परन्तु अपभ्रंश में उक्त नियम का व्यत्यय देखने में आता है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रदेशों की अपभ्रंश भाषाएँ यद्यपि महाराष्ट्रीके बाद ही उत्पन्न हुई हैं तथापि महाराष्ट्री में जो व्यञ्जन-वर्ण-लोप देखा जाता है, अपभ्रंश में उसकी अपेक्षा अधिक नहीं, बल्कि कम ही वर्ण-लोप पाया जाता है और ऋ स्वर तथा सयुक्त रकार भी विद्यमान है। इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि वर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत में अपनी चरम सीमा को पहुँच कर उसको (महाराष्ट्री को) अर्ध-हीन-भौंस पिण्ड की तरह स्वर-बहुल आकार में परिणत कर दिया। अपभ्रंश में उसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, और प्राचीन स्वर एवं व्यञ्जनों को फिर स्थान देकर भाषा को भिन्न आदर्श में गठित करने की चेष्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल है कि पिछले समय में संस्कृत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आर्य कथ्य भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं।

प्राकृत पर संस्कृत का प्रभाव

जैन और बौद्धों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में धर्मोपदेश को लिपिबद्ध करने की प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दो नये साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, वे जैन सूत्रों की अर्धमागधी और बौद्ध-धर्म ग्रन्थ की पालि भाषा है। परन्तु ये दो साहित्य-भाषाएँ और अन्यान्य समस्त प्राकृत-भाषाएँ संस्कृत के प्रभाव को उल्लंघन नहीं कर सकी हैं। इस बात का एक प्रमाण तो यह है कि इन समस्त प्राकृत-भाषाओं में संस्कृत-भाषा के अनेक शब्द अविकल रूप में गृहीत हुए हैं। ये शब्द तत्सम कहे जाते हैं। यद्यपि इन तत्सम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राकृत-भाषाओं से ही संस्कृत में स्थान और रक्षण पाया था, तो भी यह स्वीकार करना ही होगा कि ये सब शब्द परवर्ती काल की प्राकृत-भाषाओं में जो अपरिवर्तित रूप में व्यवहृत होते थे वह संस्कृत-साहित्य का ही प्रभाव था।

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के ही प्रभाव से बौद्धों में एक मिश्र-भाषा उत्पन्न हुई थी। महायान-बौद्धों के महायैपुल्य सूत्र नामक कतिपय सूत्र ग्रन्थ हैं। ललितविस्तर, सद्धर्म-पुण्डरीक, चन्द्रप्रदीपसूत्र प्रभृति इसके अन्तर्गत हैं। इन प्रयोगों की भाषा में अधिकांश शब्द तो संस्कृत के ही हैं, अनेक प्राकृत शब्दों के आगे भी संस्कृत की विभक्ति लगा कर उनको भी संस्कृत के अनुरूप क्रिये गए हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को 'गाथा' नाम दिया है। परन्तु यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि इसका यह 'गाथा' नाम असंगत है, क्योंकि यह संस्कृत-मिश्रित-प्राकृत का प्रयोग उक्त ग्रन्थों के केवल पद्यांशों में ही नहीं, बल्कि गद्यांश में भी देखा जाता है। इससे इन ग्रन्थों की भाषा को 'गाथा' न कहकर 'प्राकृत-मिश्र-संस्कृत' या 'संस्कृत-मिश्र-प्राकृत' अथवा सत्पेप में मिश्र-भाषा ही कहना उचित है।

डॉ. बनेफ और डॉ. राजेन्द्र लाल मित्र का मत है कि, 'संस्कृत भाषा, क्रमशः परिवर्तित होती हुई प्रथम गाथा भाषा के रूप में और बाद के पालि भाषा के आकार में परिणत हुई है। इस तरह गाथा भाषा संस्कृत और पालि की मध्यवर्ती

कारण इन दोनों के (संस्कृत और पालि के) लक्षणों से आक्रान्त है ।' यह सिद्धान्त सर्वथा भ्रान्त है, क्योंकि पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्कृत भाषा क्रमशः परिवर्तित होकर पालि-भाषा में परिणत नहीं किन्तु पालि-भाषा वैदिक-युग की एक प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है । और, गाथा-भाषा पालि-भाषा के वलित न थी, क्योंकि गाथा भाषा के समस्त ग्रन्थों का रचना-काल ख्रिस्त-पूर्व दो सौ वर्षों से लेकर ख्रिस्त की तृतीय पर्यन्त का है, इससे गाथा-भाषा बहुत तो पालि-भाषा की समकालीन हो सकती है, न कि पालि-भाषा की पूर्ववस्था । संस्कृत के प्रभाव को कायम रखकर विभिन्न प्राकृत भाषाओं के मिश्रण से बनी है, इसमें सन्देह नहीं है । यही कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोष में स्थान नहीं दिया गया है ।

गाथा-भाषा का थोड़ा नमूना ललितविस्तर से यहाँ उद्धृत किया जाता है —

“अध्रुवं त्रिभुव शरदभ्रनिभ, नटरङ्गसमा जगि जन्मि च्युति ।

गिरिनचसम लघुशीघ्रजव, व्रजतायु जगे यथ विद्यु नभे ॥ १ ॥”

“उदकचन्द्रसमा इमि कामगुणा, प्रतिबिम्ब इवा गिरिघोष यथा ।

प्रतिभाससमा नटरङ्गसमास्तथ स्वप्नसमा विदितार्थजनैः ॥ १ ॥” (षष्ठ २०४, २०६) ।

बुद्धदेव और उसके सारथी की आपस में बातचीत —

“एषो हि देव पुरुषो जरयाभिभूत, क्षीणेन्द्रिय. सुदु खितो बलवीर्यहीन. ।

बन्धुजनेन परिभूत अनाथभूत, कार्यासमर्थं अपविद्ध वनेव वारु ॥

कुलधर्मं एष अयमस्य हि त्वं भणाहि, अथवापि सर्वजगतोऽस्य इयं ह्यवस्था ।

शीघ्रं भणाहि वचन यथभूतमेतत्, श्रुत्वा तथार्थमिह योनि सचिन्तयिष्ये ॥

नैतस्य देव कुलधर्मं न राष्ट्रधर्मं, सर्वे जगस्य जर यौवन धर्षयाति ।

तुभ्यपि मातृपितृबान्धवज्ञातिसघो, जरया अमुक्त नहि अन्यगतिर्जनस्य ॥

धिक् सारथे श्रुधुबालजनस्य बुद्धिर्यद् यौवनेन मदमत्त जरा न पश्ये ।

आवतंयस्त्विह रथ पुनरह प्रवेक्ष्ये, किं मह्य क्रीडरतिभिर्जरया श्रितस्य ॥”

संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव

पहले जो यह कहा जा चुका है कि वैदिक काल के मध्यदेश-प्रचलित प्राकृत से ही वैदिक संस्कृत उत्पन्न हुआ है; वह साहित्य और व्याकरण के द्वारा क्रमशः माजित और नियन्त्रित होकर अन्त में लौकिक संस्कृत में परिणत हुआ है; प्राकृत के अन्तर्गत समस्त तत्सम शब्द संस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्तर के प्राकृत से ही संस्कृत में और द्वितीय स्तर के प्राकृत में आये हैं, प्राकृत के अन्तर्गत तद्भव शब्द भी संस्कृत से प्राकृत में गृहीत न होकर प्रथम स्तर के प्राकृत से ही परिवर्तित होकर परवर्ती काल के प्राकृत में स्थान पाये हैं और संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द प्राकृत में अपरिवर्तित रूप में ही रह गये हैं, इसी तरह प्राकृत के अधिकांश देशी-शब्द भी वैदिक काल के मध्यदेश-भिन्न प्राकृत प्रदेशों के आर्य-उपनिवेशों की प्राकृत-भाषाओं से ही बाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हैं, इससे उन्होंने (देशी भाषाओं में) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न वैदिक और लौकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है । इस पर से यह सहज समझा जा सकता है कि प्राकृत ही संस्कृत भाषा का मूल है ।

अब इस जगह हम यह बताना चाहते हैं कि प्राकृत से न केवल वैदिक और लौकिक संस्कृत भाषाएँ उत्पन्न ही हैं, बल्कि संस्कृत ने मूल होकर साहित्य-भाषा में परिणत होने पर भी अपनी अग-पुष्टि के लिए प्राकृत से ही अनेक शब्दों को ग्रहण किया है । ऋग्वेद आदि में प्रयुक्त वक् (वक्त्र), वहू (वधू), मेह (मेघ), पुराण (पुरातन), तितव (चालनी), त्रक (उत्तेक), प्रभृति शब्द और लौकिक संस्कृत में प्रचलित तितव (चालनी), आवुत्त (भगिनीपति), खुर (क्षुर), गुर (गोनुर), गुग्गुलु (गुल्गुलु), छुरिका (क्षुरिका), अच्छ (ऋक्ष), कच्छ (कक्ष), पियाल (प्रियाल), गल (गरल), इर (चन्द्र), इन्दिर (इन्द्र), शिथिल (श्य), मरन्द (मकरन्द), किसल (किसलय), हाल (सुराविशेष), हेवाक (वन), दाढा (दण्ड), खिडकिका (लघुदार, भाषा में खिडकी), जारुज (जरायुज), पुराण (पुरातन) वगैरह शब्द प्राकृत

से ही अविकल रूप में गृहीत हुए हैं और मारिष (मार्ष), जहिय्यसि (हास्यसि), ब्रूमि (ब्रवोमि), निष्कन्तन (निकतन), छटभ (सुन्दर), प्रभृति प्राकृत के ही मूल शब्द माजित कर संस्कृत में लिए गए हैं ।

प्राकृत-भाषाओं का उत्कर्ष

कोई भी कथ्य भाषा क्यों न हो, वह सर्वदा ही परिवर्तन-शील होती है । साहित्य और व्याकरण उसने नियम के बन्धन में जकड़कर गति-हीन और अपरिवर्तनीय करते हैं । उसका फल यह होता है कि साहित्य की भाषा क्रमशः कथ्य भाषा से भिन्न हो जाती है और जन-साधारण में अप्रचलित मृत-भाषा में परिणत होती है । साहित्य की हरकोई भाषा एक समय की कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है और वह जब मृत-भाषा में परिणत होती है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की सृष्टि होती है । इस तरह एक समय की कथ्य भाषा से ही वैदिक और लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी और वह साधारण के पक्ष में दुर्बोध होने पर अर्धमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया था । ये सब प्राकृत-भाषाएँ भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्बोध हो जाने पर संस्कृत की तरह मृत-भाषा में परिणत हो गईं और भिन्न-भिन्न प्रदेश की अपभ्रंश भाषाएँ साहित्य-भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने लगीं । अपभ्रंश भाषाएँ भी जब दुर्बोध होकर मृत-भाषाओं में परिणत हो चली तब हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी प्रभृति आधुनिक आर्य कथ्य भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में गृहीत हुई हैं । उक्त समस्त कथ्य भाषाएँ उस-उस युग की साहित्य की मृत-भाषाओं की तुलना में अवश्य ऐसे कतिपय उत्कर्षों से विशिष्ट होनी चाहिए जिनकी वदौलत ही ये उस-उस समय की मृत-भाषाओं को साहित्य के सिंहासन से च्युत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं । अब यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि ये उत्कर्ष कौन थे ?

हरकोई भाषा का सर्व-प्रथम उद्देश्य होता है अर्थ-प्रकाश । इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट रूप से और जितने अल्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश किया जाय वह उतनी ही उत्कृष्ट भाषा मानी जाती है । इन दो कारणों के वश होकर ही भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधित होता है और भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न कथ्य-भाषाओं से नयी नयी साहित्य-भाषाओं की उत्पत्ति होती है । वैदिक संस्कृत क्रमशः लुप्त होकर लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों से ही हुई थी । वैदिक शब्द-समूह अप्रचलित होने पर उसके अनावश्यक प्रकृति और प्रत्ययों को बाद देकर जो सहज ही समझ में आ सके वैसी प्रकृति और प्रत्ययों का संग्रह कर वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी । संस्कृत-भाषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से अप्रचलित होकर जब दुःख-बोध्य हो उठे तब उस समय की कथ्य भाषाओं से ही स्पष्टार्थक, सुलोच्चारण-योग्य, मधुर और कोमल प्रकृति-प्रत्ययों का संग्रह कर संस्कृत के अनावश्यक, दुर्बोध, कटोच्चारणीय, कठोर और कर्कश प्रकृति-प्रत्यय-सन्धि समासों का वर्जन कर अर्धमागधी, पाली और अन्धान्य प्राकृत-भाषाएँ साहित्य-भाषाओं के रूप में व्यवहृत होने लगीं । यदि इन सब नूतन साहित्य-भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा अर्थ-प्रकाश की अधिक शक्ति, अल्प आयास से और सुख से उच्चारण योग्यता प्रभृति गुण न होते तो ये कर्म भी संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होतीं । काल-क्रम से ये सब प्राकृत-साहित्य-भाषाएँ भी जब व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचलित और जन-साधारण में दुर्बोध हो चलीं तब उस समय प्रचलित प्रादेशिक अपभ्रंश भाषाओं ने इनको हटाकर साहित्य-भाषाओं का स्थान अपने अधिकार में किया । यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि साहित्य की प्राकृत-भाषाओं की अपेक्षा इन अपभ्रंश-भाषाओं में वह कौन-सा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत साहित्य-भाषाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी गुण चरम सीमा में पहुँच जाने पर फिर वह गुण ही नहीं रहने पाता, वह दोष में परिणत हो जाता है । संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इनमें संस्कृत के कर्कश और कटोच्चारणीय असयुक्त और संयुक्त व्यञ्जन वर्णों के स्थान में सब कोमल और सुलोच्चारणीय वर्ण व्यवहृत होते थे । किन्तु इस गुण की भी सीमा है, महाराष्ट्री प्राकृत में यह गुण सीमा का अतिक्रम कर गया, यहाँ तक कि संस्कृत के अनेक व्यञ्जनों का एरुद्ध ही लोप कर उनके स्थान में स्वर-वर्णों की परम्परा-द्वारा समस्त शब्द गठित होने लगे । इससे इन शब्दों के उच्चारण सुख-साध्य होने के बदले अधिकतर कष्टसाध्य हुए, क्योंकि बीच-बीच में व्यञ्जन-वर्णों से व्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण करना कष्टकर होता है । इस तरह प्राकृत-भाषा महाराष्ट्री-प्राकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में उपनीत हुई तबसे ही इसका पतन अनिवार्य हो उठा । इसकी प्रतिक्रिया-

भाषाओं में नूतन व्यञ्जन वर्ण बैठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेष्टा हुई। इसका फल यह हुआ अपभ्रंश-भाषाएँ साहित्य की भाषाओं के रूप में उन्नीत हुईं। आधुनिक प्रादेशिक आर्य-भाषाएँ भी प्राकृत उस दोष का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन संस्कृत शब्दों को ग्रहण कर अपभ्रंशों के स्थान को अपने अधिकार में साहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुईं। आधुनिक आर्य-भाषाओं में पूर्व-वर्ती प्राकृतों और अपभ्रंशों का रूप यह है कि इन्होंने शब्दों के सम्बन्ध में प्राकृत और संस्कृत को मिश्रित कर उभय के गुणों का एक सुन्दर किया है। इनके तद्भव और देव्य शब्दों में प्राकृत की क्रोमलता और मधुरता है और तत्सम शब्दों में संस्कृत की आधुनिक आर्य-भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कृत और प्राकृतों के लोप, वचन और विभक्तियों के भेदों का वर्जन कर, उनके बदले भिन्न भिन्न स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा लोप, विभक्तियों के भेदों को प्रकाशित कर और संस्कृत तथा प्राकृतों के विभक्ति-बहुल स्वभाव का परित्याग कर भाषा में परिणत हुईं हैं। इस तरह इन भाषाओं ने अल्प आयास से वक्ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में देने का मार्ग-प्रदर्शन किया है। उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आर्य-भाषाओं ने वैदिक, संस्कृत, प्राकृत और सब साहित्य-भाषाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है।

कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में जो उत्कर्ष—गुण ऊपर बताये हैं वे अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों ने पहले ही हैं। उनके ग्रन्थों से, प्राकृत के उत्कर्ष के सम्बन्ध में, कुछ वचन यहाँ पर उद्धृत किए जाते हैं —

^१ 'अग्निम पाठम-कव्व पठिउं सोऊ च जे ए आणति ।

कामस्स तत्त-तत्ति कुणति, ते कह ए लज्जति ? ॥ (हाल की भाषासप्तशती १, २) ।

यौ जो लोप अमृतोपम प्राकृत-भाव्य को न तो पढ़ना जानते हैं और न सुनना जानते हैं अथवा काम-तत्त्व की रते हैं उनको शरम क्यों नहीं आती ?

^२ उम्मिल्लइ लायएणं पयय-च्छायाए सक्कय-वयाएणं ।

सक्कय सक्काल्लक रिसणोण पययस्सवि पहावो ॥' (वाक्पतिराज का गजडवहो ६५) ।

कृत शब्दों का लावण्य प्राकृत की छाया से ही व्यक्त होता है, संस्कृत-भाषा के उत्कृष्ट सस्कार में भी प्राकृत का होता है।

^३ एवमत्थ-वसण सनिवेश-सिसिराओ वष-रिद्धीओ ।

अविरलमिणमो आभुवण वषमिह एवर पययम्मि ॥' (गजडवहो ७२) ।

ए के प्रारम्भ से लेकर व्याजतक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दर्शन और सुन्दर रचनावाली प्रबन्ध-विधि भी है तो वह केवल प्राकृत में ही।

^४ हरिस-विसेसो विथसावओ य मज्जलावओ य अच्छीण ।

इह वहि-हुत्तो अतो मुद्दो य हिययस्स विप्पुरइ ॥' (गजडवहो ७४) ।

कृत-भाव्य पढ़ने के समय हृदय के भीतर और बाहर एक ऐसा अभूत-पूर्व हर्ष होता है कि जिससे दोनों ओरों में विकसित और सुदृष्ट होती है।

^५ पत्तो सक्कम-वषो पाठअ बंधोवि होइ सुउमारो ।

पुरिस-महिलाए जेतम्मिहत्तर तेत्तिम्मिमाण ॥' (राजशेखर की कर्पूरकञ्जरी, अङ्क १) ।

संस्कृत-भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा सुकुमार है। पुरुष और महिला में जिनना अन्तर है, इन दो भाषाओं में भी प्रभेद है।

१ अमृत प्राकृत काव्य पठित्त्तु ओनु च ये न जानन्ति । कामस्यतस्त्वचिन्ता कुर्वन्ति, ते कथं न लज्जन्ते ? ॥

२ उम्मिल्लति लावण्य प्राकृतच्छायाया संस्कृतपदानाम् । संस्कृतसस्कारोत्कर्षणेन प्राकृतस्यापि प्रभावः ॥

३ नवामार्थदर्शन सनिवेशशिशिरो बन्धद्वय । अविरलमिदमाभुवनवन्धमिह केवल प्राकृते ॥

४ हृषिकेशो विकासको मुकुलीकारकथाश्चो । इह वहिमुखोऽतपुंख्य हृदयस्य विस्फुरति ॥

५ पद्य संस्कृतमय प्राकृतव्यस्तु भवति सुकुमार । पुरुषमहिलयोर्बन्धिहान्तर तावदनयो ॥

‘गिर श्रव्या दिव्या प्रकृतिमधुरा’ प्राकृतगिर ।

सुभव्योऽपत्र श सरसरचनं भूतवचनम् । (राजशेखर का बालरामायण १, ११) ।

संस्कृत-भाषा सुनने योग्य है, प्राकृत भाषा स्वभाव-मधुर है, अपत्र श भाषा भव्य है और पैशाची-भाषा की रचना रस-पूर्ण है ।

‘सकय-कव्वस्तथं जेण न याणति मद-बुद्धीया ।

सव्वाणवि सुह-बोह तेणोम पायय रइयं ॥

गुदत्थ-वेसि-रहिय सुललिय-वन्तीहि विरइय रम्म ।

पायय-कव्व लोए कस्स न हियय सुहावेइ ? ॥ (महेश्वरसूरि का पञ्चमीमाहात्म्य) ।

सामान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समझ नहीं पाता है । इस लर यह ग्रन्थ उस प्राकृत-भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुख-बोध है ।

गूढार्थक देशी-शब्दों से रहित और सुललित पदां में रचा हुआ सुन्दर प्राकृत-काव्य किसके हृदय को सुखी नहीं करता ?

‘उज्झल सकय-कव्व सकय-कव्व च निम्मिय जेण ।

वस-हरं व पलित्तं तडयडतट्टत्तणं कुणइ ॥’

(वज्जालंग (?) से अपत्र शकाव्यत्रयो को प्रस्ता०, पृष्ठ ७६ में उद्धृत) ।

संस्कृत-काव्य को छोड़ो और जिसने संस्कृत काव्य की रचना की उसका भी नाम मत लो, क्योंकि वह (संस्कृत) जलते हुए बॉस के घर की तरह ‘तड़ तड़ तड़’ आवाज करता है—शतिकटु लगता है ।

‘पाइअ-कव्वम्मि रसो जो जायइ तह व छेय-भणिएहि ।

उययस्स य वासिय-सीयलस्स तित्ति न वच्चामो ॥

ललिए महुरक्खरण जुवई-यण-वल्लहे स-सिगारे ।

सते पाइय-कव्वे को सकइ सकयं पडिउ ? ॥’ (जयवल्लभ का वज्जालंग, पृष्ठ ६)

प्राकृत-भाषा की कविता में और विदग्ध के वचनों में जो रस आता है उससे, वासी और शीतल जल की तरह, राशि नहीं होती है—मन कभी ऊबता नहीं है—उत्कण्ठा निरन्तर बनी ही रहती है ।

जब सुन्दर, मधुर, शृङ्गार-रस-पूर्ण और युवतियों को प्रिय ऐसा प्राकृत-काव्य मौजूद है तब संस्कृत पढ़ने को कौन जाता है ?

१. संस्कृतकाव्यस्यार्थं येन न जानन्ति भन्दबुद्धयः । सर्वेषामपि सुखबोधे तेनेदं प्राकृतं रचितम् ॥
गूढार्थदेशीरहितं सुललितवर्णविरचितं रम्यम् । प्राकृतकाव्यं लोके कस्य न हृदयं सुखयति ? ॥
२. उज्झयता संस्कृतकाव्यं संस्कृतकाव्यं च निमित्तं येन । वशगृहमिव प्रदीप्तं तडतडतट्टत्वं करोति ॥
३. प्राकृतकाव्ये रसो यो जायते तथा वा छेकभणितैः । उदकस्य च वासितशीतलस्य तुमि न प्रजाम् ॥
ललिते मधुराक्षरके पृवतिजनवल्लभे सम्भृताः । सति प्राकृतकाव्ये कः प्वकते संस्कृतं पठितुम् ? ॥

इस कोष में स्वीकृत प ति

प्रथम काले टाइपो में क्रम से प्राकृत शब्द, उसके बाद सादे टाइपो में उस प्राकृत शब्द के लिङ्ग आदि का संक्षिप्त निर्देश, उसके पश्चात् काले कोष्ठ (ब्रैकेट) में काले टाइपो में प्राकृत शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द, उसके अनन्तर सादे टाइपो में हिन्दी भाषा में अर्थ और तदनन्तर सादे टाइपो में ब्रैकेट में प्रमाण (रेफरेंस) का उल्लेख किया गया है।

शब्दों का क्रम नागरी वर्ण-माला के अनुसार इस तरह रखा गया है.—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, क, ख, ग आदि। इस तरह अनुस्वार के स्थान की गणना संस्कृत-कोषों की तरह पर-सवर्ण अनुनासिक व्यञ्जन के स्थान में न कर अन्तिम स्वर के बाद और प्रथम व्यञ्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि संस्कृत की तरह प्राकृत में व्याकरण की दृष्टि से भी अनुस्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कही भी अनिवार्य नहीं है और प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में प्रायः सर्वत्र अनुस्वार का ही प्रयोग पाया जाता है।

प्राकृत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से आर्ष (अर्धमागधी) और महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में और सामान्य रूप से आर्ष से लेकर अपभ्रंश भाषा तक के अर्थ में किया जाता है। अस्तुतः कोष के 'प्राकृत-शब्द-महासूत्र' नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य अर्थ में ही गृहीत है। इससे यहाँ आर्ष, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अशोक-शिलालिपि, देश्य, मागधी, पैशाची, बृलिकापैशाची तथा अपभ्रंश भाषाओं के शब्दों का संग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता और साहित्य की दृष्टि से इन सब भाषाओं में आर्ष और महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे इन दोनों के शब्द यहाँ पूर्ण रूप से लिए गये हैं और शौरसेनी आदि भाषाओं के प्रायः उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो या तो प्राकृत (आर्ष और महाराष्ट्री) से विशेष भेद रखते हैं अथवा जिनका प्राकृत रूप नहीं पाया गया है, जैसे—'ध्येव', 'विधुव', 'सपाद-इत्तम', 'सभावीमदि' वगैरह। इस भेद की पहिचान के लिए प्राकृत से इतर भाषा के शब्दों और आख्यात-कृतन्त के रूपों के आगे सादे टाइपो में कोष्ठ में उस उस भाषा का संक्षिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, जैसे ^३'(शौ)', '(मा)' इत्यादि। परन्तु शौरसेनी आदि में भी जो शब्द या रूप प्राकृत के ही समान हैं वहाँ ये भेद-दर्शक चिह्न नहीं दिए गए हैं।

(क) आर्ष और महाराष्ट्री से शौरसेनी आदि भाषाओं के जिन शब्दों में सामान्य (सर्व-शब्द-साधारण) भेद है उनको इस कोष में स्थान देकर पुनरावृत्ति-द्वारा ग्रन्थ के कलेवर को विशेष बढाना इसलिए उचित नहीं समझा गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत भाषाओं के साधारण ग्रन्थात्तो से भी अज्ञात नहीं है और वह उपोद्घात में भी उस उस भाषा के लक्षण-प्रसङ्ग में दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही ख्याल में आ सकता है।

(ख) आर्ष और महाराष्ट्री में भी परस्पर उल्लेखनीय भेद है। तिस पर भी यहाँ उनका भेद-निर्देश न करने का एक कारण तो यह है कि इन दोनों में इतर भाषाओं से अपेक्षा-कृत समानता अधिक है, दूसरा, प्रकृति की अपेक्षा प्रत्ययों में ही विशेष भेद है जो व्याकरण से सम्बन्ध रखता है, कोष से नहीं, तीसरा, जैन ग्रन्थकारों ने महाराष्ट्री-ग्रंथों में भी आर्ष प्राकृत के शब्दों का अविकल रूप में अधिक व्यवहार कर उनको महाराष्ट्री का रूप दे दिया है ^४।

प्राकृत में यश्रुतिनाला^५ नियम खूब ही अव्यवस्थित है। प्राकृत-प्रकाश, सेतुबन्ध, गायासप्तशती और प्राकृतपिंगल आदि में इस नियम का एकदम अभाव है जबकि आर्ष, जैन महाराष्ट्री तथा गडबवहो-प्रश्रुति ग्रन्थों में इस नियम का हृद से ज्यादा आदर देखा जाता है, यहाँ तक कि एक ही शब्द में कही तो यश्रुति है और कही नहीं, जैसे 'पम्र' और 'पय', 'लोम्र' और 'लोय'। इस कोष में ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न कर कोई भी (यश्रुतिवाले 'य', से रहित या सहित) एक ही शब्द लिया गया है। इससे क्रम तथा इतर समान शब्दों की

१. देखो प्राकृतप्रकाश, सूत्र ४, १४, १७, हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण, सूत्र १, २५, और प्राकृतसर्वस्व, सूत्र, ४, २३ आदि।

२. प्राकृतमर्वस्व (पृष्ठ १-३) आदि में इनसे अतिरिक्त और भी प्राच्या, शाकारि आदि अनेक उपभेद बताए गए हैं, जिनका समावेश यहाँ शौरसेनी आदि इन्हीं मुख्य भेदों में यथास्थान किया गया है।

३. इन संक्षिप्त नामों का विवरण सकेत-सूची में देखिए।

४. इसी से डॉ. पिशालू आदि पाश्चात्य विद्वानों ने आर्ष-भिन्न जैन प्राकृत-ग्रंथों की भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' नाम दिया है। देखो डॉ. पिशालू का प्राकृतव्याकरण और डॉ. टेमेटोरी की उपदेशमाला की प्रस्तावना।

५. हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण का सूत्र १, १८०।

तुलना की सुविधा के लिए आवश्यकतानुरूप कही कही रेफरेंसवाले शब्द के 'अ' के स्थान में 'य' और 'य' की जगह 'अ' किया गया है।

आषं ग्रन्थों में यश्रुतिवाले 'य' की तरह 'त' का प्रयोग भी बहुत ही पाया जाता है, जैसे 'अय' (अज) के स्थान में 'अत', 'अई' (अतीत) की जगह 'अतीय' आदि। ऐसे शब्दों की भी इस कोष में बहुधा पुनरावृत्ति न करके त-वर्जित शब्दों की ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है।

६. संयुक्त शब्दों को उनके क्रमिक स्थान में अलग न देकर मूल (पूर्व भागवाले) शब्द के भीतर ही उत्तर भागवाले शब्द अकारादि क्रम से काले टाइपो में दिए गए हैं और उसके पूर्व^० (ऊर्ध्व बिन्दी) का चिह्न दिया गया है। ऐसे शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द भी काले टाइपो में चिह्न दे कर दिए गए हैं। विशेष स्थानों में पाठकों की सुगमता के लिए संयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान में अलग भी बतलाये गए हैं और उसके अर्थ तथा रेफरेंस के लिए मूल शब्द में जहाँ वे दिए गए हैं, देखने की सूचना की गई है।

(क) इन संयुक्त शब्दों में जहाँ 'देखो'— से जिस शब्द को देखने को कहा गया है वहाँ उस शब्द के उसी मूल शब्द के भीतर देखना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर।

७. त्, त्तर (त्व), आ, या (तल्), अर, यर, तराग (तर), अम, तम (तम) आदि सुगम और सर्वत्र साधारण प्रत्ययवाले शब्दों में प्रत्ययों को छोड़कर केवल मूल शब्द ही यहाँ लिए गए हैं। परन्तु जहाँ ऐसे प्रत्ययों में रूप आदि की विशेषता है वहाँ प्रत्यय-सहित शब्द भी लिए गए हैं।

८. धातुओं के सब रूप सादे टाइपो में और कृदन्तों के रूप काले टाइपो में धातु के भीतर दिए गए हैं।

(क) भाव तथा कर्म-कर्तार रूपों का निर्देश भी धातु के भीतर 'कर्म—' से ही किया गया है।^१

(ख) भूत कृदन्त के रूप तथा अन्य आख्यात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप बहुधा अलग अलग अपने क्रमिक स्थान में दिए गए हैं।

९. जिन सस्करणों से शब्द-समूह किया गया है उनमें रही हुई सपादन की या प्रेस की भूलों को सुधार कर शुद्ध शब्द ही यहाँ दिए गए हैं। पाठकों के ज्ञानार्थ साधारण भूलों को छोड़कर विशेष भूलवाले पाठ रेफरेंस के उल्लेख के अनन्तर पूर्व में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गए हैं और भूलवाले भाग की शुद्धि कौंस में '१' (शङ्काचिह्न) के बाद बतला दी गई है, जैसे देखो क्षोब्ध, वृष्ण आदि शब्द।

(क) जहाँ भिन्न भिन्न ग्रन्थों में या एक ही ग्रन्थ के भिन्न भिन्न स्थानों में या सस्करणों में एक ही शब्द के अनेक सदृश रूप पाये गए हैं और जिनके शुद्ध रूप का निर्णय करना कठिन जौन पडा है वहाँ पर ऐसे रूपवाले सब शब्द इस कोष में यथास्थान दिए गए हैं और तुलना के लिए ऐसे प्रत्येक शब्द के अन्त भाग में 'देखो—' लिख कर इतर रूप भी सूचाया गया है, जैसे देखो 'पुक्खलच्छिभय, पोक्खलच्छिलय', 'पेसल, पेसलेस, 'भयालि, सयालि' आदि शब्द।

१०. एक ही ग्रन्थ के एक या भिन्न भिन्न सस्करणों के अथवा भिन्न भिन्न ग्रन्थों के पाठ-भेदों के सभी शुद्ध शब्द इस कोष में यथास्थान दिए गए हैं, जैसे—परिब्रमुंसिय (भगवतीसूत्र २५—पत्र ६२३) और परिब्रमुंसिय (भग २५ टी—पत्र ६२५), गिचिवदेज्ज (भो. मा. का सूत्रकृताग १, २, ३, १२) और गिचिवदेज्ज (आ स का सूत्रकृताग १, २, ३, १२), पविरल्लिय (आ. स. का प्रत्ययकरण १, ५—पत्र ६१) और पवित्थरिल्ल (अभिधानराजेन्द्र का प्रत्ययकरण १, ५), सामकोट्ट (समवायाग-सूत्र, पत्र १५३) और सामिकुट्ट प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति।

११. संस्कृत की तरह प्राकृत में भी कम से कम शब्द के आदि के 'व' तथा 'व' के विषय में गहरा मत-भेद है। एक को शब्द कही वकारादि पाया जाता है तो कही वकारादि। जैसे भगवतीसूत्र में 'वत्थि' हैं तो विपाकश्रुत में 'वत्थि' छपा है। इससे ऐसे शब्दों को दोनों स्थानों में न देकर जो 'व' या 'व' उचित जान पडा है उसी एक स्थल में वह शब्द दिया गया है और उभय प्रकार के शब्दों के रेफरेंस भी वहाँ ही दिये गये हैं। हाँ, जहाँ दोनों अक्षरों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया है वहाँ दोनों स्थलों में वह शब्द दिया गया है, जैसे 'वप्फाडल' और 'वप्फाडल' आदि।

१२. लिङ्गादि-बोधक संज्ञित शब्द प्राकृत शब्द से ही सबन्ध रखते हैं, संस्कृत प्रतिशब्द से नहीं।

(क) जहाँ अर्थ भेद में लिङ्ग आदि का भी भेद है वहाँ उस अर्थ के पूर्व में ही मित लिग आदि का सूचक शब्द दे दिया गया है। जहाँ ऐसा भिन्न शब्द नहीं दिया है वहाँ उसके पूर्व के अर्थ या अर्थों के समान ही लिग आदि समझना चाहिए।

(ख) प्राकृत में लिंग-विधि खूब ही अनियमित है। प्राकृत वैयाकरणों ने भी कुछ अति सक्षित परन्तु व्यापक सूत्रों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन ग्रंथों में एक ही शब्द का जिस-जिस लिंग में योग जहाँ तक हमें दृष्टिगोचर हुआ है, उस-उस लिंग का निर्देश इस कोष में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिंग में विशेष विलक्षणता पाई गई है वहाँ उस ग्रंथ का अवतरण भी दे दिया गया है।

(ग) जहाँ स्त्रीलिंग का विशेष रूप पाया गया है वहाँ उस ग्रंथ के वाद 'स्त्री—' निर्देश करके रेफरेंस के साथ दिया गया है।
(घ) प्राकृत में अनेक ग्रंथों में अव्यय के वाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे स्थानों में अव्यय-सूचक 'अ' के वाद प्रायः लिंग बोधक शब्द भी दिया गया है, जैसे 'बला' के वाद 'अ स्त्री' = (अव्यय तथा स्त्रीलिंग)।

देश्य शब्दों के संस्कृत प्रतिशब्द के स्थान में केवल देश्य का सक्षिप्त रूप 'दे' ही काले टाइपो में कोष्ठ में दिया गया है।

(क) जो धातु वास्तव में देश्य होने पर भी प्राकृत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्याकरणों में संस्कृत धातु के आदेश कह कर तद्भव बतलाये गये हैं उनके संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में 'दे' न देकर प्राचीन वैयाकरणों की मान्यता बतलाने के उद्देश्य से वे वे आदेशि संस्कृत रूप ही दिये गये हैं। इससे संस्कृत से बिल्कुल विसदृश रूपवाले इन देश्य धातुओं को वास्तविक तद्भव समझने की भूल कोई न करे।

(ख) जो धातु तद्भव होने पर भी प्राकृत व्याकरणों में उसको अन्य धातु का आदेश बतलाया गया है उस धातु के व्याकरण-प्रदर्शित आदेशि संस्कृत रूप के बाद वास्तविक संस्कृत रूप भी दिखलाया गया है यथा पेच्छ के [दृश्, प्र + ईष्] आदि।

(ग) प्राचीन ग्रंथों में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर तद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचीन मान्यता बतलाने के लिए संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' दिया गया है।

(घ) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्भव बतलाते हुए उसके जो परिमार्जित—छिल-छाल कर बनये हुए संस्कृत-रूप अपने ग्रंथों में दिये हैं, परन्तु जो संस्कृत-कोषों में नहीं पाये जाते हैं, ऐसे संस्कृत प्रतिरूपों को यहाँ स्थान न देते हुए केवल 'दे' ही दिया गया है।

(ङ) जो शब्द देश्य रूप से सदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' भी दिया है।

प्राचीन व्याख्याकारों के दिये हुए संस्कृत प्रतिशब्द से भी जो अत्रिक समानतावाला संस्कृत प्रतिशब्द है वही यहाँ पर दिया गया है, जैसे 'एहाणिय' के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्नापित' के बदले 'स्नानित'।

अनेक ग्रंथवाले शब्दों के प्रत्येक अर्थ १, २, ३ आदि अकों के बाद क्रमशः दिये गये हैं और प्रत्येक अर्थ के एक या अनेक रेफरेंस उभय अर्थ के बाद सादे ब्राकेट में दिये हैं।

(क) धातु के भिन्न-भिन्न रूपवाले रेफरेंसों में जो-जो अर्थ पाये गये हैं वे सब १, २, ३ के अकों से देकर क्रमशः धातु के आख्यात तथा कृन्त के रूप दिये गये हैं और उस-उभय रूपवाले रेफरेंस का उल्लेख उसी रूप के बाद ब्राकेट में कर दिया गया है।

(ख) जिस शब्द का अर्थ वास्तव में सामान्य या व्यापक है किन्तु प्राचीन ग्रंथों में उसका प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या संकीर्ण अर्थ में हुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य या व्यापक अर्थ ही इस कोष में दिया गया है, यथा—'हृदियन्त्र' का प्रकरण-वश होता 'हाथ के योग्य आभूषण' यह विशेष अर्थ यहाँ पर न देकर 'हाथ सम्बन्धी' यह सामान्य अर्थ ही दिया गया है। 'एकवचन (नाक्षत्र)' आदि तद्धितान्त शब्दों के लिए भी यही नियम रखा गया है।

शब्द-रूप, लिंग, अर्थ की विशेषता या सुभाषित की दृष्टि से जहाँ अवतरण देने की आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर वह, पर्याप्त अंश में, अर्थ के बाद और रेफरेंस के पूर्व में दिया गया है।

(क) अवतरण के बाद कोष्ठ में जहाँ अनेक रेफरेंसों का उल्लेख है वहाँ पर केवल सर्व प्रथम रेफरेंस का ही अवतरण से संबन्ध है, शेष का नहीं।

एक ही ग्रंथ के जिन अनेक संस्करणों का उपयोग इस कोष में किया गया है, रेफरेंस में साधारणतः संस्करण-विशेष का उल्लेख न करके केवल ग्रंथ का ही उल्लेख किया गया है। इससे ऐसे रेफरेंसवाले शब्दों को सब संस्करणों का या संस्करण-विशेष का समझना चाहिए।

तुलना की सुविधा के लिए आवश्यकतानुरूप कही कही रेफरेंसवाले शब्द के 'अ' के स्थान में 'य' और 'य' की जगह 'इ' किया गया है।

आषं ग्रन्थों में यञ्चुतिवाले 'य' की तरह 'त' का प्रयोग भी बहुत ही पाया जाता है, जैसे 'अय' (अज) के स्थान में 'अत', 'अईअ' (अतीत) की जगह 'अतीय' आदि। ऐसे शब्दों की भी इस कोष में बहुधा पुनरावृत्ति न करके त-वर्जित शब्दों को ही विशेष रूप में स्थान दिया गया है।

६. सयुक्त शब्दों को उनके क्रमिक स्थान में अलग न देकर मूल (पूर्व भागवाले) शब्द के भीतर ही उत्तर भागवाले शब्द अकारादि क्रम के काले टाइपो में दिए गए हैं और उसके पूर्व^० (ऊर्ध्व बिन्दी) का चिह्न दिया गया है। ऐसे शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द भी काले टाइपों में चिह्न दे कर दिए गए हैं। विशेष स्थानों में पाठकों की सुगमता के लिए सयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान में अलग भी बतलाये गए हैं और उसके अर्थ तथा रेफरेंस के लिए मूल शब्द में जहाँ वे दिए गए हैं, देखने की सूचना की गई है।

(क) इन सयुक्त शब्दों में जहाँ 'देखो'—' से जिस शब्द को देखने को कहा गया है वहाँ उस शब्द के उसी मूल शब्द के भीतर देखना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर।

७. त्त, त्तए (त्व), आ, या (तल्), अर, यर, तराग (तर), अम, तम (तम) आदि सुगम और सर्वत्र-साधारण प्रत्ययवाले शब्दों में प्रत्ययों को छोड़कर केवल मूल शब्द ही यहाँ लिए गए हैं। परन्तु जहाँ ऐसे प्रत्ययों में रूप आदि की विशेषता है वहाँ प्रत्यय-सहित शब्द भी लिए गए हैं।

८. घातुओं के सब रूप सादे टाइपो में और कृदन्तों के रूप काले टाइपो में घातु के भीतर दिए गए हैं।

(क) भाव तथा कर्म-कर्तार रूपों का निर्देश भी घातु के भीतर 'कर्म—' से ही किया गया है।^१

(ख) भूत कृदन्त के रूप तथा अन्य आख्यात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप बहुधा अलग अलग अपने क्रमिक स्थान में दिए गए हैं।

९. जिन संस्करणों से शब्द संग्रह किया गया है उनमें रही हुई संपादन की या प्रेस की भूलों को सुधार कर शुद्ध शब्द ही यहाँ दिए गए हैं। पाठकों के जाना-बूझा साधारण भूलों को छोड़कर विशेष भूलवाले पाठ रेफरेंस के उल्लेख के अनन्तर पूर्व में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गए हैं और भूलवाले भाग की शुद्धि कौंस में '१' (शुद्धिचिह्न) के बाद बतला दी गई है, जैसे देखो क्षोडभ, वृषभ आदि शब्द।

(क) जहाँ भिन्न भिन्न ग्रंथों में या एक ही ग्रंथ के भिन्न भिन्न स्थानों में या संस्करणों में एक ही शब्द के अनेक सदिग्ध रूप पाये गए हैं और जिनके शुद्ध रूप का निर्णय करना कठिन जान पडा है वहाँ पर ऐसे रूपवाले सब शब्द इस कोष में यथास्थान दिए गए हैं और तुलना के लिए ऐसे प्रत्येक शब्द के अन्त भाग में 'देखो—' लिख कर इतर रूप भी सूचाना गया है, जैसे देखो 'पुक्खलच्छिभय, पोक्खलच्छिभय', 'पेसल, पेसलेस, 'भयालि, सयालि' आदि शब्द।

१०. एक ही ग्रंथ के एक या भिन्न भिन्न संस्करणों के अथवा भिन्न भिन्न ग्रंथों के पाठ-भेदों के सभी शुद्ध शब्द इस कोष में यथास्थान दिए गए हैं, जैसे—परिज्मुसिय (भगवतीसूत्र २५—पत्र ६२३) और परिज्मुसिय (भग २५ टी—पत्र ६२५), णिविदेज्ज (भी. मा. का सूत्रकृताग १, २, ३, १२) और णिविदेज्ज (आ. स. का सूत्रकृताग १, २, ३, १२), पविरल्लिय (आ. स. का प्रनव्याकरण १, ५—पत्र ६१) और पविस्थिरि (अभिधानराजेन्द्र का प्रनव्याकरण १, ५), सामकोट्ट (समवायाग-सूत्र, पत्र १५३) और सामिकुड प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति।

११. संस्कृत की तरह प्राकृत में भी कम से कम शब्द के आदि के 'व' तथा 'व' के विषय में गहरा मत-भेद है। एक को शब्द कही वकारादि पाया जाता है तो कही वकारादि। जैसे भगवतीसूत्र में 'वत्थि' हैं तो विपाकभ्रुत में 'वत्थि' छपा है। इससे ऐसे शब्दों को दोनों स्थानों में न देकर जो 'व' या 'व' उचित जान पडा है उसी एक स्थल में वह शब्द दिया गया है और उभय प्रकार के शब्दों के रेफरेंस भी वहाँ ही दिये गये हैं। हाँ, जहाँ दोनों अक्षरों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया है वहाँ दोनों स्थलों में वह शब्द दिया गया है, जैसे 'वप्फाडल' और 'वप्फाडल'^१ आदि।

१२. लिङ्गादि-बोधक सप्तम शब्द प्राकृत शब्द से ही संबन्ध रखते हैं, संस्कृत प्रतिशब्द से नहीं।

(क) जहाँ अर्थ-भेद में लिङ्ग आदि का भी भेद है वहाँ उस अर्थ के पूर्व में ही भिन्न लिंग आदि का सूचक शब्द दे दिया गया है। जहाँ ऐसा भिन्न शब्द नहीं दिया है वहाँ उसके पूर्व में अर्थ या अर्थों के समान ही लिंग आदि समझना चाहिए।

- (ख) प्राकृत में लिंग-विधि खूब हो अनियमित है। प्राकृत वैयाकरणों ने भी कुछ अति संक्षिप्त परन्तु व्यापक सूत्रों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन ग्रंथों में एक ही शब्द का जिस-जिस लिंग में योग जहाँ तक हमें दृष्टिगोचर हुआ है, उस-उस लिंग का निर्देश इस कोष में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिंग में विशेष विलक्षणता पाई गई है वहाँ उस ग्रथ का अवतरण भी दे दिया गया है।
- (ग) जहाँ स्त्रीलिंग का विशेष रूप पाया गया है वहाँ उस ग्रथ के बाद 'स्त्री—' निर्देश करके रेफरेंस के साथ दिया गया है।
- (घ) प्राकृत में अनेक ग्रंथों में अव्यय के बाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे स्थानों में अव्यय-सूचक 'अ' के बाद प्रायः लिंग बोधक शब्द भी दिया गया है, जैसे 'बला' के बाद 'अ ली' = (अव्यय तथा स्त्रीलिंग)।

१३. देश्य शब्दों के संस्कृत प्रतिशब्द के स्थान में केवल देश्य का संक्षिप्त रूप 'दे' ही काले टाड़पों में कोष्ठ में दिया गया है।

- (क) जो धातु वास्तव में देश्य होने पर भी प्राकृत के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्याकरणों में संस्कृत धातु के आदेश कह कर तद्भव बतलाये गये हैं उनके संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में 'दे' न देकर प्राचीन वैयाकरणों की मान्यता बतलाने के उद्देश्य से वे वे आदेशित संस्कृत रूप ही दिये गये हैं। इससे संस्कृत से विलकुल विसदृश रूपवाले इन देश्य धातुओं को वास्तविक तद्भव समझने की भूल कोई न करे।
- (ख) जो धातु तद्भव होने पर भी प्राकृत-व्याकरणों में उसको अन्य धातु का आदेश बतलाया गया है उस धातु के व्याकरण-प्रदर्शित आदेशित संस्कृत रूप के बाद वास्तविक संस्कृत रूप भी दिखलाया गया है यथा पेच्छ् के [दृश्, प्र + ईक्ष्] आदि।
- (ग) प्राचीन ग्रंथों में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर तद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचीन मान्यता बतलाने के लिए संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' दिया गया है।
- (घ) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्भव बतलाते हुए उसके जो परिमार्जित—छिल-छाल कर बनाये हुए संस्कृत—रूप अपने ग्रंथों में दिये हैं, परन्तु जो संस्कृत-कोषों में नहीं पाये जाते हैं, ऐसे संस्कृत प्रतिरूपों को यहाँ स्थान न देते हुए केवल 'दे' ही दिया गया है।
- (ङ) जो शब्द देश्य रूप से सदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व में 'दे' भी दिया है।

१४. प्राचीन व्याख्याकारों के दिये हुए संस्कृत प्रतिशब्द से भी जो अधिक समानतावाला संस्कृत प्रतिशब्द है वही यहाँ पर दिया गया है, जैसे 'एहाणिय' के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्नापित' के बदले 'स्नानित'।

१५. अनेक ग्रंथवाले शब्दों के प्रत्येक ग्रंथ १, २, ३ आदि अंकों के बाद क्रमशः दिये गये हैं और प्रत्येक ग्रंथ के एक या अनेक रेफरेंस उस ग्रंथ के बाद सादे ब्राकेट में दिये हैं।

(क) धातु के भिन्न भिन्न रूपवाले रेफरेंसों में जो-जो ग्रंथ पाये गये हैं वे सब १, २, ३ के अंकों से देकर क्रमशः धातु के ब्राह्म्यात तथा कृदन्त के रूप दिये गये हैं और उस-उस रूपवाले रेफरेंस का उल्लेख उसी रूप के बाद ब्राकेट में कर दिया गया है।

(ख) जिस शब्द का ग्रंथ वास्तव में सामान्य या व्यापक है किन्तु प्राचीन ग्रंथों में उसका प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या संकीर्ण ग्रंथ में हुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य या व्यापक अर्थ ही इस कोष में दिया गया है, यथा—'हृत्विचग' का प्रकरण-वश होता 'हाथ के योग्य आभूषण' यह विशेष अर्थ यहाँ पर न देकर 'हाथ सम्बन्धी' यह सामान्य अर्थ ही दिया गया है। 'एकवचन (नासन्)' आदि तद्विद्वान्त शब्दों के लिए भी यही नियम रखा गया है।

१६. शब्द-रूप, निग, ग्रंथ की विशेषता या सुभाषित की दृष्टि से जहाँ अवतरण देने की आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर वह, पर्याप्त अंश में, ग्रंथ के बाद और रेफरेंस के पूर्व में दिया गया है।

(क) अवतरण के बाद कोष्ठ में जहाँ अनेक रेफरेंसों का उल्लेख है वहाँ पर केवल सर्व प्रथम रेफरेंस का ही अवतरण से संबन्ध है, शेष का नहीं।

१७. एक ही ग्रंथ के जिन अनेक संस्करणों का उपयोग इस कोष में किया गया है, रेफरेंस में साधारणतः संस्करण-विशेष का उल्लेख न करके केवल ग्रंथ का ही उल्लेख किया गया है। इससे ऐसे रेफरेंसवाले शब्दों को सब संस्करणों का या संस्करण विशेष का समझना चाहिए।

(क) जहाँ पर संस्करण-विशेष के उल्लेख की खास आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर रेफरेंस की सकेत सूची में दिये हुए संस्करण के १, २ आदि अंक रेफरेंस के पूर्व में दिये हैं, जैसे पेसल और पेसलेस शब्दों के रेफरेंस 'आचा' के पूर्व में '२' का अंक आगमोदय-समिति के संस्करण का और '३' का अंक प्रो० रवजी भाई के संस्करण का बोधक है।

१८. जहाँ कहीं प्राकृत के किसी शब्द के रूप की, अर्थ की अथवा संयुक्त शब्द आदि की समानता या विशेषता के लिये प्राकृत के ही ऐसे शब्दान्तर की तुलना बतलाना उपयुक्त जान पड़ा है वहाँ पर रेफरेंस के बाद 'देखो—' से उस शब्द को देखने की सूचना की गई है।

१९. जहाँ कहीं 'देखो' के बाद काले टाइपो में दिये हुए प्राकृत शब्द के अनन्तर सादे टाइपो में लिगादि-बोधक या संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है वहाँ उसी लिग आदिवाले या संस्कृत प्रतिशब्दवाले ही प्राकृत शब्द से मतलब है, न कि उसके समान इतर प्राकृत शब्द से। जैसे अ शब्द के 'देखो च अ' के च से पुलिग च को छोड़कर दूसरा ही अव्यय-भूत च शब्द, और ओसार के 'देखो ऊसार=उसार' के 'ऊसार' से तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाहिए, पहले, दूसरे और चौथे ऊसार शब्द को नहीं।

उक्त नियमों से अतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरण इस कोष में किया गया है वे आधुनिक नूतन पद्धति के संस्कृत आदि कोषों के देखनेवालों से परिचित और सुगम होने के कारण खुलासे की जरूरत नहीं रखते।

पाइअ-सइ-महणवो

(प्राकृत-शब्द-महार्णवः)

पासिअ-दोस समूह, भासिअणेगतवाय-ललिअत्थं ।
पासिअ-लोआलोअ, वंदाभि जिण महावीर ॥ १ ॥

निक्कित्तिम-साउ-पयं, अइसइअ सयल-वाणि-परिणमिर ।
वार्यं अवाय-रहिअ, पणमामि जिणिंद-देवाण ॥ २ ॥

पाइअ-भासामइअ, अवलोइअ सत्थ सत्थमइविउलं ।
सइ-महणव-णाम, रएमि कोस स-वण्ण-कम ॥ ३ ॥

अ

अ पु [अ] १ प्राकृत वर्ण-माला का प्रथम अक्षर (हे १, १, प्रामा) । २ विष्णु, कृष्ण (से १, १) ।

अ देखो च अ (आ १४, जी २, पठम ११३, १४, कुमा) ।

अ [दे] देखो इव, 'चदो अ' (प्राकृ ७६) ।

अं अ [अ] निम्न-लिखित अर्थों में से, प्रकरण के अनुसार, किसी एक को बतलानेवाला अव्यय—१ नियेव, प्रतिषेध, 'अइसए' (सुर ७, २४८), 'सव्वनिसेहे मओऽकारी' (विसे १२३२) । २ विरोध, उल्टापन, 'अचम्म' (एगामा १, १८) । ३ अयोग्यता, अनुचितपन, 'अयास' (गठम २२, ८५) । ४ अल्यता, थोडा-पन, 'अयण' (गठड), 'अचेल' (सम ४०) । ५ अमान, अविद्यमानता, 'अयुण' (गठड) । ६ भेद, भिन्नता, 'अमणुस्स' (एदि) । ७ नाश, तुल्यता, 'अचक्खुदत्तए' (सम १५) । ८ अग्रगन्तव्य, बुरापन, 'अमाइ' (चार २६) । ९ लक्षण, छोटाई, अण्ड' (वृह १) ।

अ पु [अ] १ सूर्य, सूरज (मे ७, ६३) । २ अग्नि, घात । ३ मयूर, मोर (से ६, ४३) । ४

न पानी, जल (से १, १) । ५ शिखर, टोच (से ६, ४३) । ६ मस्तक, सिर (से ६, १८) ।

अं वि [ंज] उत्पन्न, जात (गा ६७१) ।

अअंख वि [दे] स्नेह-रहित, सूखा (दे १, १३) ।

अअर देखो अवर (पि १६५) ।

अअर देखो आयर (पि १६५) ।

अइ अ [अयि] १-२ समावना और आमलण अर्थ का सूचक अव्यय (हे २, २०५, स्वप्न ५८) ।

अइ अ [अति] यह अव्यय नाम और धातु के पूर्व में लगता है और नीचे के अर्थों में से किसी एक को सूचित करता है—१ अतिशय, अति-रेक, 'अइउरह', 'अइउत्ति', 'अइचितत' (आ १४, रभा, गा २१४) । २ उत्कर्ष, महत्त्व, 'अइवेग' (कप्प) । ३ पूजा, प्रशंसा, 'अइजाय' (ठा ४) । ४ अतिक्रमण, उल्लघन, 'अइउकसो' (दस ५, ४, ४२) । ५ ऊपर, ऊंचा, 'अइमच', 'अइपडागा' (औप, एगामा १, १) । ६ निन्दा, 'अइपडिय' (वृह १) ।

अइ अ [अति] सामर्थ्य-सूचक अव्यय, 'अइवहइ' (सुअ १, २, ३, ५) ।

अइ सक [आ + इ] आगमन करना, आ गिरना, 'अइति नाराया' (स ३८३) ।

अइइ लो [अदिति] पुनर्वसु नक्षत्र का अधिष्ठाता देव (सुज १०) ।

अइइ सक [अति+इ] १ उल्लघन करना । २ गमन करना । ३ प्रवेश करना । वक्तु अइत (से ६, २६, कप्प) । सकु अइच्च (सुअ १, ७, २८) ।

अइउट्ट वि [अतिवृत्त] अतिगत, प्राप्त (सुअ १, ५, १, १२) ।

अइच सक [अति + अञ्च] १ अभिपेक करना, स्थानापन्न करना । २ उल्लघन करना । ३ अक दूर जाना (से १३, ८, ८६) ।

अइचिअ वि [अत्यञ्चित] १ अभिषिक्त, स्थानापन्न किया हुआ (से १३, ८) । २ उल्लघित, अतिक्रान्त (से १३, ८) । ३ दूर गया हुआ (से १३, ८६) ।

अइछ देखो अइच (से १३, ८) ।

अइछिअ देखो अइचिअ (से १३, ८) ।

अइछण न [अत्यञ्चन] १ उल्लघन (से १३, ३८) । २ आकर्षण, खींचाव (से ८ ६४) ।

अइंत देखो अइइ = अति + इ ।

अइंत वि [अनायत्] १ नहीं आता हुआ ।
 २ जो जाना न जाता हो, 'गाहाहि पणइणीहि
 य खिज्जइ चित्तं अइतीहि' (वज्जा ४) ।
 अइदिय वि [अतीन्द्रिय] इन्द्रियो से जिसका
 ज्ञान न हो सके वह (विसे २८१८) ।
 अइमुत्त देखो अइमुत्त (प्राक् ३२) ।
 अइकम अक [अतिक्रम] गुजरना, बीतना,
 'देवच्चणस्स समओ अइकमइ दुद्धरस्स रायस्स'
 (सम्मत्त १७४) । देखो अइकम = अति +
 क्रम ।
 अइकाय पु [अतिकाय] १ महोरग—जातीय
 देवो का एक इन्द्र (ठा २) । २ रावण का एक
 पुत्र (मे १६, ५६) । ३ वि बड़ा शरीरवाला
 (गाया १, ६) ।
 अइककत वि [अतिक्रान्त] १ अतीत, गुजरा
 हुआ, 'अइककतजोन्वणा' (ठा ५) । २ तीर्ण,
 पार पहुँचा हुआ (भाव) । ३ जिसने त्याग किया
 हो वह, 'सन्नसियोहाइककता' (श्रीप) ।
 अइकम सक [अति + क्रम] १ उल्लघन
 करना । २ व्रत-नियम का आशिक रूप से
 खरडन करना, 'अइकमइ' (भग) । वक अइ-
 कमत, अइकममाण (सुपा २३८, भग) ।
 क अइकमणिज्ज (सुअ, २, ७) ।
 अइकम पु [अतिक्रम] १ उल्लघन (गा
 ३४८) । २ व्रत या नियम का आशिक खरडन
 (ठा ३, ४) ।
 अइकमण न [अतिक्रमण] कार देखो (सुपा
 २३८) ।
 अइकख वि [अतीक्षण] तीक्ष्णतारहित,
 'अइक्खा वेयरणी' (तदु ४६) ।
 अइकख वि [अनीक्ष्य] अदृश्य, 'अइक्खा
 वेयरणी (तदु ४) ।
 अइगच्छ } अक [अति + गम्] १ गुजरना,
 अइगम } बीतना । २ सक पहुँचना । ३
 प्रवेश करना । ४ उल्लघन करना । ५ जाना,
 गमन करना । वक अइगच्छमाण (गाया
 १, १) । सक अइयच्च (आचा), 'अइगतूग
 अलोग' (विसे ६०४) ।
 अइगम पु [अतिगम] प्रवेश (विसे ३८६) ।
 अइगमण न [अतिगमन] १ प्रवेश-मार्ग
 (गाया १, २) । २ उत्तरायण, सूर्य का उत्तर
 दिशा में जाना (भग) ।

अइगय वि [दे] १ आया हुआ । २ जिसने
 प्रवेश किया हो वह (दे १, ५७), 'ससुरकुलम्मि
 अइगयो, दिट्ठा य सगउरउं तत्थ' (उप ५६७
 टी) । ३ न. मार्गका पीछला भाग (दे १,
 ५७) ।
 अइगय वि [अतिगत] अतिक्रान्त, गुजरा हुआ,
 'हिडतस्स अइगय वरिसमेग' (महा, से १०,
 १८, विसे ७ टी) ।
 अइगय वि [अतिगत] प्राप्त, 'एव बुदिमइ-
 गमो गब्बे सवसइ दुक्खिओ जीवो' (तदु
 १३) ।
 अइचिर अ [अतिचिरम्] बहुत काल तक
 (गा ३४६) ।
 अइच्च देखो अइइ = अति + इ ।
 अइच्छ सक [गम्] जाना, गमन करना ।
 'अइच्छइ (हे ४, १६२) ।
 अइच्छ सक [अति + क्रम] उल्लघन करना ।
 अइच्छइ (श्रीप ५१८) । वक अइच्छत
 (उत्त १८) ।
 अइच्छा जी [अदित्सा] १ देने की अनिच्छा ।
 २ प्रत्याख्यान विशेष (विसे ३५०४) ।
 अइच्छिय वि [गत] गया हुआ, गुजरा हुआ
 (पउम ३, १२२, उप ४ १३३) ।
 अइच्छिय वि [अतिक्रान्त] अतिक्रान्त, उल्ल-
 घित (प्राअ, विसे ३५८२) ।
 अइजाय पु [अतिजात] पिता से अधिक
 संपत्ति को प्राप्त करनेवाला पुत्र (ठा ४) ।
 अइट्ट वि [अट्ट] १ जो न देखा गया हो
 वह । २ न कर्म, दैव, भाग्य (भवि) । 'उच्च,
 'पुच्च वि [पूर्वे] जो पहले कभी न देखा
 गया हो वह (गा ४१४, ७४८) ।
 अइट्ट वि [अट्ट] जो देखा न गया हो वह
 (हास्य १४६) ।
 अइट्ट वि [अनिट्ट] १ अप्रिय । २ खराब, दुष्ट,
 'जो पुणु खलु खुदु अइट्टसु, तो किमवम-
 त्यउ देइ अणु' (भवि) ।
 अइट्टा सक [अति + स्था] उल्लघन करना ।
 सक अइट्टिय (उत्त ७) ।
 अइट्टिय वि [अतिप्रित] अतिक्रान्त, उल्लघित
 (उत्त ७) ।
 अइण न [दे] गिरि-नट, तराई, पहाड का
 निम्न भाग (दे १, १०) ।

अइण न [अजिन] चर्म, चमड़ा (प्राअ) ।
 अइणिय वि [दे अतिनीत] आनीत, चापा
 हुआ (दे १, २४) ।
 अइणिय } वि [अतिनीत] १ फँका हुआ (से
 अइणीय } ६, ५६) । २ जो दूर से जाया
 गया हो (प्राप) ।
 अइणीअ वि [अतिगत] गत, गया हुआ (सुअ
 २, १३) ।
 अइणीय वि [दे अतिनीत] आनीत, चापा
 हुआ (महा) ।
 अइणु वि [अतिनु] जिसने नौका का उल्ल-
 घन किया हो वह, जहाज से उतरा हुआ
 (पड) ।
 अइतह वि [अवितथ] सत्य, सच्चा (उप
 १०३१ टी) ।
 अइतेया जी [अतितेजा] पक्ष की चोदहवीं
 रात (सुज्ज १०, १४) ।
 अइदपज्ज न [एदपर्य] तारथ, रहस्य, भावार्थ
 (उप ८६४, ८७६) ।
 अइदुसमा } जी [अतिदुष्पमा] देखो दुरस
 अइदुरसमा } महुस्समा (पउम २०, ८२,
 अइदूसमा } ६०, उप ४ १४७) ।
 अइदपज्ज देखो अइदपज्ज (पचा १४) ।
 अइघाडिय वि [अतिघाटित] फिराया हुआ,
 घुमाया हुआ (परह १, ३) ।
 अइनिट्टुहावण वि [अतिविट्ठभन] स्नान
 करनेवाला, रोकनेवाला (कुमा) ।
 अइन्न न [अजीर्ण] १ बदनहमी, अपच । २
 वि जो हजम न हुआ हो वह । ३ जो पुरान
 न हुआ हो, नूनन (उव) ।
 अइन्न वि [अदत्त] नहीं दिया हुआ । 'याण
 न [दान] चोरो (प्राचा) ।
 अइपडुकवलमिन्ना जी [अनिपाण्डुस्सुअ-
 शिला] मेरु पर्वत पर स्थित दक्षिण दिशा की
 एक शिवा (ठा ८) ।
 अइपडाग पु [अतिपताक] १ मत्स्य की एफ
 जानि (त्रिपा १, ८) । २ जी पतारा के
 ऊपर की पताका (गाया १, १) ।
 अइपरिणाम वि [अतिपरिणाम] आरम्भ-
 कता न रहने पर जो अपनाद-मार्ग का हो
 आरथ्य लेनेवाला, गान्धोक अपनादों की मयाज
 का उल्लघन करनेवाला ,

अइपाइअ—अइरिण

‘जो इव्वखेतकालभावकय ज जहिं जया काले ।
तल्लेमुत्तुतमई, अइपरिणाम वियाणाहिं’
(वृह १) ।

अइपाइअ वि [अतिपातिक] हिंसा करनेवाला
(सूत्र २, १, ५७) ।

अइपास पु [अतिपार्ष्व] भगवान् अरनाथ
के समकालिक ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर-
देव (तित्य) ।

अइपास सक [अति + दृश] अतिशय
देखना, खूब देखना । अइपासइ (सूत्र १, १,
४, ६) ।

अइप्पो अ [अतिप्रगे] पूर्व-प्रभात, बडी
सवेर (सुर ७, ७८) ।

अइप्पमाण वि [अतिप्रमाण] १ तृप्त होना
हुआ भोजन करनेवाला । २ न तीन बार से
अधिक भोजन (पिड ६४७) ।

अइप्पसग पु [अतिप्रसङ्ग] १ अतिपरिचय
(पञ्चा १०) । २ तर्क-शास्त्र में प्रसिद्ध अति-
व्याप्ति-नामक दोष (स १६६, उवर ४८) ।

अइप्पसगि वि [अतिप्रसङ्गिन्] अतिप्रसग
दापवाला (अम्भ १०) ।

अइप्पहाय न [अतिप्रभात] बडी सवेर (गा
६८) ।

अइणल वि [अतिवल] १ बलिष्ठ, शक्ति-शाली
(औप) । २ न अतिशय बल, विशेष सामर्थ्य ।
३ बडा सैन्य (हि ४, ३५४) । ४ पु एक
राजा, जो भगवान् ऋषभदेव के पूर्वीय चतुर्थ
भ्रम में पिता या पितामह था (आन्व) । ५
भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (ठा ८) । ६
भरत क्षेत्र में ग्राणामी चौबीसी में होनेवाला
पंचवा वामुदेव (सम ५) । ७ रावण का एक
मादा (पचम ५६, २७) ।

अइमहा स्त्री [अतिमहा] भगवान् महावीर
के प्रनाम नामक स्यारहवें गणधर की माता
(प्राव) ।

अइमूड पु [अतिभूति] एक जैन मुनि, जो
पचम वामुदेव के पूर्व-जन्म में गुरु थे (पचम
२०, २७६) ।

अइभूमि स्त्री [अतिभूमि] १ परम प्रकल्प ।
२ बृहत् जमीन (स ३, ४२) । ३ गृहस्थों
के पत्नी का वह भाग, जहाँ वाधुओं का प्रवेश

करने की अनुज्ञा न हो, ‘अइभूमि न गच्छेज्जा,
गोयरणगग्रो पुरी’ (दस ५, १, २४) ।

अइमट्टिया स्त्री [अतिमृत्तिका] कीचवाली
मट्टी (जीव ३) ।

अइमत्त } वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाण
अइमाय } से अधिक (उव ठा ६) ।

अइमुंक्क } पु [अतिमुक्क, क] १ स्वनाम
अइमुत्त } ख्यात एक अन्तकृद् (उसी जन्म में
अइमुंतय } मुक्ति पानेवाला) जैन मुनि, जो
अइमुत्त } पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र
अइमुत्तय } था और जिसने बहुत छोटी ही
उम्र में भगवान् महावीर के पास
दीक्षा ली थी (अन्त) । २ कस
का एक छोटा भाई (भाव) । ३
वृक्ष-विशेष (पचम ४२, ८) । ४
माधवी लता (पाम्र, स ३५) ।
५ न अन्तगडदसा नामक अग-ग्रन्थ
का एक अन्वयन (अन्त) । (हि १,
२६, १७८, पि २४६) ।

अइय वि [अतिग] अतिक्रान्त, ‘अब्बो अइअ-
म्मि तुमे, एवरं जइ सा न बूरिहिड’ (हि
२, २०४) । २ करनेवाला, ‘ठाणाइय’
(औप) ।

अइय वि [अतिग] प्राप्त (राय १३४) ।

अइय वि [दयित] १ प्रिय, प्रीतिपात्र । २
दया-पात्र, दया करने योग्य (सि ६, ३१) ।

अइयक्क देखो अइगच्छ ।

अइयण न [अत्यदन] बहुत खाना, अधिक
भोजन करना (व २) ।

अइयय वि [अतिगत] गया हुआ (स
३०३) ।

अइयर सक [अति + चर्] १ उल्लघन
करना । २ व्रत को दूषित करना । वृह
अइयरत्त (सुपा ३५४) ।

अइया सक [अति + या] जाना, गुजरना
(उत्त २०) ।

अइया स्त्री [अजिका] बकरी, छागी (उप
२३७) ।

अइया स्त्री [दयिता] स्त्री, पत्नी (सि ६,
३१) ।

अइयाण न [अतियान] १ गमन, गुजरना ।

२ राजा वगैरह का नगर आदि में घूम-घाम
से प्रवेश करना (ठा ४) ।

अइयाय वि [अतियात] गया हुआ, गुजरा
हुआ (उत्त २०) ।

अइयार पु [अतिचार] उल्लघन, अतिक्रमण
(भवि) । २ गृहीत व्रत या नियम में दूषण
लगाना (श्रा ६) ।

अइर अ [अचिर] जल्दी, शीघ्र (स्वन २७) ।
अइर न [अजिर] आगन, चौक (पाम्र) ।

अइर पु [दे] आशुक्त, गावका राज-नियुक्त
मुखिया (दे १, १६) ।

अइर न [दे. अतर] देखो अयर = अतर
(सुपा ३०) ।

अइर वि [दे] अनिरोहित (पिड ५६०,
५६१) ।

अइरजुवइ स्त्री (दे) नई बहू, दुलहिन (दे १,
४८) ।

अइरत्त पु [अतिरात्र] अधिक तिथि, ज्योतिष
की गिनती से जो दिन अधिक होता है वह
(ठा ६) ।

अइरत्त वि [अतिरत्त] १ गाढा लाल । २
विशेष रागी । कम्बलशिला, कम्बला स्त्री
[कम्बलशिला, कम्बला] में पर्वत के
पाहूक वन में स्थित एक शिला, जिसपर
जिनदेवों का जन्माभिषेक किया जाता है
(ठा २, ३) ।

अइरा अ [अचिरात्] शीघ्र, जल्दी (सि
३, १५) ।

अइरा स्त्री [अचिरा] पाचवें चक्रवर्ती और
सोलहवें तीर्थकर-देव की माता (सम
अइराणी) १५२, पचम २०, ४२) ।

अइराणी स्त्री [दे] १ इन्द्राणी । २ सौभाग्य के
लिए इन्द्राणी-व्रत करनेवाली स्त्री (दे १, ५८) ।

अइरावण पु [ऐरावण] इन्द्र का हाथी (पाम्र) ।
अइरावय पु [ऐरावत] इन्द्र का हाथी (भवि) ।

अइराहा स्त्री [अचिराभा] विजली, चपला
(दे १, ३४ टी) ।

अइरि न [अतिरि] धन या सुवर्ण का अति-
क्रमण करनेवाला, धनाढ्य (पडू) ।

अइरिप पु [दे] कथाबन्ध, वातचीत, कहानी
(दे १, २६) ।

अइरित्त वि [अतिरिक्त] १ वचा हुआ, अव-
शिष्ट (पउम ११८, ११६) । २ अधिक, ज्यादा
(ठा २, १), 'पवद्धमाणाडरित्तगुणानिलभो'
(साव ६३) । ३ सिञ्जासणिय वि [शय्या-
सनिक] लम्बी-चौड़ी शय्या और आसन रखने-
वाला (साधु) (आव) ।

अवरुव वि [अतिरूप] १ सुरूप, सुढील
(पउम २०, ११३) । २ पु भूत-जातीय देव-
विशेष (पएण १) ।

अइरेइय वि [अतिरेकित] अतिरेक-युक्त, अति-
प्रभूत (राय ७८ टी) ।

अइरेग पु [अतिरेक] १ आधिनय, अधिकता,
'साइरेगअट्टवासजायय' (राया १, ५) । २
अतिशय (जीव ३) ।

अइरेण } अ [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र (गा
अइरेण } १३५, पउम ६२, ४, उवर ४२) ।

अइरेय देखो अइरेग (राया १, १) ।

अइव अ [अतीव] अतिशय, अत्यन्त,
'रित्त अइव महत्त,

चिट्ठइ मज्झमि तत्स भवणस्स ।

ता त सब्ब सुपुरिस ।

अप्पायत्त करेज्जामु ॥' (महा) ।

अइवट्टण न [अतिवर्त्तन] उल्लघन, अति-
क्रमण (आचा) ।

अइवत्त सक [अति + वृत्] अतिक्रमण
करना । अइवत्तइ (आचा) ।

अइवत्तिय वि [अतिव्रतिक] १ जिसका
उल्लघन किया गया हो वह । २ प्रधान,
मुख्य । ३ उल्लघन करनेवाला (आचा) ।

अइवय सक [अति + वृत्] उल्लघन करना ।
सक अइवइत्ता (सूअ २, २, ६५) ।

अइवय सक [अति + व्रज्] १ उल्लघन
करना । २ समुल्ल जाना । ३ प्रवेश करना ।
अइवयति (पएह १, ८) । वक्क 'नियगवयण
अइवयत्त गय सुमिणे पासित्ताएँ पडिबुद्धा'
(राया १, १, कप्प) ।

अइवय सक [अति + पत्] उल्लघन करना ।
२ सम्पन्न करना । ३ प्रवेश करना । ४ अन्न
मरना । ५ गिरजाना, 'अवरे रण-सीम-सद्ध-
लक्खा सगाममि अइवयति' (पएह १, ३),
'लोभयथा ससार अइवयति' (पएह १, ५) ।
वक्क जरं वा सरीरुव-विणासिणि सरीर

वा अइवयमाणि निवारेसि' (राया १, ९),
अइवयत्त (कप्प) । प्रयो अइवाएमाण
(आचा, ठा ७) ।

अइवह सक [अति + वह] वहन करने मे
समर्थ होना । अइवहइ (सूअ १, २, ३, ५) ।

अइवाइ वि [अतिपातिव्] १ हिसक (सूअ
१, ५) । विनस्वर (वित्ते १५७८) ।

अइवाइत्तु वि [अतिपातयित्] मारनेवाला
(ठा ३, २) ।

अइवाइय वि [अनिपातिक] ऊपर देखो
(सूअ २, १) ।

अइवाएत्तु देखो अइवाइत्तु (ठा ७) ।

अइवाएमाण देखो अइवय = अति + पत् ।
अइवाय पु [अतिपात] १ हिसा आदि दोष
(श्लो ४६) । २ विनाश, 'पाणाइवाएण'
(राया १, ५) ।

अइवाय पु [अतिघात] १ उल्लघन । २ भय-
कर पवन, तूफान (उप ७६८ टी) ।

अइवाह सक [अति + वाहय्] वीताना,
गुजारना, 'सो अइवाहेइ दुन्नि दिणै' (धर्मवि
३३) ।

अइविरिय वि [अतिवीर्य] १ वलिष्ठ, महा-
पराक्रमी । २ पु इक्ष्वाकु वंश का एक राजा
(पउम ५, ५) । ३ नन्दावर्त नगर का एक
राजा (पउम ३७, ३) ।

अइविसाल वि [अतिविशाल] १ बहुत बड़ा,
विस्तीर्ण । २ स्त्री यमप्रभ नामक पर्वत के
दक्षिण तरफ की एक नगरी (दीव) ।

अइस [अप] वि [ईदृश] ऐसा, इस तरह
का (हि ४, ४०३) ।

अइसइ वि [अतिशयिन्] अतिशय वाला,
विशिष्ट, आश्चर्य-कारक (सुपा २५७) ।

अइसइअ वि [अतिशयित] ऊपर देखो
(पाअ) ।

अइसघण देखो अइसघाण, 'भित्ताएणित्त-
सवण न कायव' (पचा ७, २१) ।

अइसघाण [अतिसंधान] ठगाई, वचना,
'भियगाएणइमघाए सासयबुद्धी य जयणा य'
(पचा ७) ।

अइसक्का स्त्री [अविष्वक्कणा] उत्तेजना,
प्रेरणा, बढावा (निमा) ।

अइसय सक [आते + शी] मात करना ।

वक्क 'परवलम् अइसयतो' (पउम ६०,
१०) ।

अइसय पु [अतिशय] १ श्रेष्ठता, उत्तमता
(कुमा १, ५) । २ महिमा, प्रभाव, 'वयणा-
इसओ' (महा) । ३ बहुत, अत्यन्त (सुए, १२,
८१) । ४ चमत्कार (उर १, ३) । ५ अरिय
वि [भूत] पूर्ण, पूरा भरा हुआ (पाअ) ।

अइसरिय न [इइवर] वैभव, संपत्ति, गौरव
(हि १, १५१) ।

अइसाइ वि [अतिशायिन्] १ श्रेष्ठ (धम
६ टी) । २ दूसरे को मात करनेवाला ।

स्त्री 'णी' (सुपा ११४) ।

अइसायण न [अतिशायन] उत्कृष्टता,
उत्कर्ष (चिइय ५३३) ।

अइसार पु [अतिसार] समहणी रोग, जठर
को व्याधि-विशेष (लहुअ १५) ।

अइसेस पु [अतिशेप] १ महिमा, प्रभाव,
आध्यात्मिक सामर्थ्य (सम ५६) । २ वचा
हुआ, अवशिष्ट (ठा ४, २) । ३ अतिशय
वाला (वित्ते ५५२) ।

अइसेसि वि [अतिशेपिन्] १ प्रभावशाली,
महिमान्वित । २ समृद्ध (राज) ।

अइसेसि वि [अतिशेपिन्] १ महिमान्वित ।
२ समृद्ध, ज्ञान आदि के अतिशय से सम्पन्न
(सट्ठि ४२ टी) ।

अइसेसिय वि [अतिशेपित] ऊपर देखो
(श्लो ३०) ।

अइसेसिय वि [अतिशेपित] ज्ञात, जाना
हुआ (वव १) ।

अइहर पु [अतिभर] हृद, धवधि, मयादा,
'सत्तीय को अइहरो ?' (अचु २३) ।

अइहारा स्त्री [दे] विजली, चपला (दि १,
३४) ।

अइहि पु [अनिधि] जिसके आने की क्रिया
नियत न हो वह, पाहुन, यात्री, मित्रुक, सण्डु
(आचा) । २ सविभाग पु [सविभाग] जठर

को भोजन आदि का निर्दोष दान (धर्म ३) ।

अई मक [गम] जाना, गमन करना । अई
(हि ४, १६०, कुमा), अइति (गउट) ।

अई पु [अति] १ भूतकाल (पवद ८) ।
२ वि जो चीत हुआ हो, गुजरा हुआ, 'अई
अईमा मिदा' (पडि) । ३ अतिमान (इम

१, १०, सार्धं ४, त्रिसे ८०८) । ४ जो दूर हो गया हो (उत्त १५) ।

अईअ } अ [अतीव] बहुत, विशेष, अत्यन्त
अईव } (अग २, १; परह १, २) ।

अईसत त्रि [अ + दृश्यमान] जो दिखता न हो (सि १, ३५) ।

अईसय देखो अइसय (पउम ३, १०५, ७५, २६) ।

अईसार पु [अतीसार] रोग-विशेष, सग्रहणी रोग (सुख १, ३) ।

अईसार पु [अतीसार] १ सग्रहणी रोग । २ इस नाम का एक राजा (ठा ५, ३) ।

अउ देखो आउ = स्त्री, 'उल्लसिओ तमरूवो वनयागारो अउकक्रओ' (पव २५५) ।

अउअ न [अयुत] १ दस हजार की सख्या । २ 'अउअ' को चौरासी लाख से गुणने पर जो मध्या लब्ध हो वह (ठा २, ४) ।

अउअग न [अयुताङ्ग] 'अच्छरिणउर' को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४) ।

अउठ वि [अकुण्ठ] निपुण, कार्य-दक्ष (गउउ) ।

अउचित्त न [औचित्य] उचितपन (प्राक् १०) ।

अउज्झ वि [अयोध्य] १ युद्ध में जिसका मामना न किया जा सके वह (सम १३७) ।

२ जिम पर रिपु-मैत्र्य आक्रमण न कर सके तैमा विना, नगर आदि (ठा ४) ।

अउज्झा स्त्री [अयोध्या] नगरी-विशेष, इक्ष्वा-कुश के राजाओ की राजधानी, विनीता, कोमना, माकेतपुर आदि नामोसे विख्यात नगरी, जा आजकल भी अयोध्या नाम से ही प्रसिद्ध है (ठा २) ।

अउण वि [अणोन्न] जिसमें एक कम हो वह । यह शब्द बीस से लेकर तीस, चालीस आदि दहाई संख्या के पूर्व में लगता है और त्रिंशत् अथ उम संख्या से एक कम होता है ।

१ 'टिहु स्त्री [पट्टि] उनसाठ, ५६ (रम) । २ 'चरि स्त्री [सप्तति] उनसत्तर, ६६ (रम) । ३ 'तीस स्त्री [त्रिंशत्] उनतीस, ८६ (राजा १, १३) । ४ 'सट्टि स्त्री [पट्टि] उन्याठ, -६ (कप्प) । ५ 'पन्न, 'वन्न स्त्रीन

[पञ्चाशत्] उनपचास, ४६ (जी ३०, पउम १०२, ७०) । देखो एगूण ।

अउणतीसइ स्त्री देखो अउण-तीस (उत्त ३६, २४०) ।

अउणाप्पन्न देखो अउणापन्न (जीवस २०८) ।

अउणासट्टि देखो अउण-सट्टि (सुज्ज ६) ।

अउणोणित्त स्त्री [अपुननिवृत्ति] अन्तिम निवृत्ति, मोक्ष (अचु १०) ।

अउण्ण } न [अयुण्य] १ पाप (सुर ६,
अउन्न } २) । २ वि अपवित्र । ३ पुण्य-रहित, पापी (पउम २८, ११२, सुर २, ५१) ।

अउम देखो ओम (गुभा १४) ।

अउमर वि [अदमर] खानेवाला, भक्षक (प्राक् २८) ।

अउल्ल वि [अनुल्ल] अमाधारण, अद्वितीय (उप ७२८ टी, परह १, ४) ।

अउलीन वि [अकुलीन] कुल-हीन, कुजाति, सकर (गा २५३) ।

अउव्व वि [अपूर्व] अनोखा, अद्वितीय (गा ११६) ।

अउस पु [दे] उपासक, पूजारी (प्रयो ८२) ।

अए अ [अये] आमन्त्रण-सूचक अव्यय (कप्प) ।

अओ अ [अतस्] १ यहा से लेकर (सुपा ४७८) । २ इसलिए, इस कारण से (उप ७३०) ।

अओ° [अयस्] लोह । °घण पु [घन] लोहे का हथौडा, 'सोसपि भिदति अओघ-रोहि' (सुअ १, ५, २, १४) । °भय वि [°भय] लोहे की बनी हुई चीज (सुअ २, २) । °मुह पु [°मुख] १-२ इस नाम का अन्तर्द्वीप और उसके निवासी (ठा ५) । ३ वि लोहे की माफिक मजबूत मुह वाला, 'पक्खीहि खज्जति अओमुहेहि' (सुअ १, ५, २, ४) । °मुही स्त्री [°मुखी] एक नगरी (उप ७६४) ।

अओग्ग वि [अयोग्य] नालायक (स ७६४) ।

अओज्झा देखो अउज्झा (प्रति ११५) ।

अ अ [दे] स्मरण-प्रोत्तक अव्यय, 'अ ददुव्वा मालइलअ' (प्राक् ८०) ।

अक पु [अक्क] १ उत्सव, कोला (स्वप्न २१६) । २ रत्न की एक जाति (कप्प) ।

३ नौ की एक सख्या, 'कासी विक्रमवच्छरम्मि य गए वाणकमुज्जोडुवे' (सुर १६, २४६) ।

४ सख्या-दर्शक चिह्न, १, २, ३ (परण २) । ५ नाटक का एक अंग, 'सुरणा मणु-स्सभवणाडएसु निज्जाइआ अका' (वण ४५) ।

६ सफेद मणि की एक जाति (उत्त ३४) ।

७ चिह्न, निशान (चद २०) । ८ मनुष्य के वत्तीस प्रशस्त लक्षणो में से एक (परह १, ४) । ९ आसन-विशेष (चद ४) । °कण्ड पुन [काण्ड] रत्नप्रभा पृथ्वी के खर-काण्ड का एक हिस्सा, जो अक रत्नो का है (ठा १०) । °अरेट्टग, °करेड्डुअ पु [°करेड्डुक] पानी में होनेवाली एक जाति की वनस्पति (आचा) । °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] अक रेखाओ की विचित्र स्थापना, ६४ कलाओ में एक कला (कप्प) । °धर पु [°धर] चन्द्रमा (जीव ३) । °घाई स्त्री [°घात्री] पाच प्रकार की घाई-माताओ में से एक, जिसका काम बालक को उत्सव में ले उसका जी बहलाना है (राया १, १) । °ल्लि वि स्त्री [°ल्लिपि] अठारह लिपियो में की एक लिपि, वर्णमाला-विशेष (सम ३५) । °वणिय पु [°वणिक] अक-रत्नो का व्यापारी (राय) । °वालि, °वाली स्त्री [°पालि, °पाली] आलिगन (काप १६४) । °हर देखो °धर (जीव ३) ।

अक [दे अक्क] निकट, समीप, पास (दे १, ५) ।

अक पुन [अक्क] एक देव-विमान (दिवेन्द्र १३२) ।

अककरेड्डुअ, °ग देखो अक-करेड्डुअ (आचा २, १, ८, ५) ।

अकग न [अक्कन] १ चिह्नित करना (आच) । २ बेल आदि पशुओ को लोहे की गरम सलाई आदि से दागना (परह १, १) । ३ वि अकित करनेवाला, गिनती में लानेवाला, 'अकणं जोइ-सस्स सूर' (कप्प) ।

अकणा स्त्री [अक्कना] ऊपर देखो (राया १, १७) ।

अकदास पु [अक्कदास] बालक को उत्सव में लेकर उपका जी बहलानेवाला नौकर (सम्मत्त २१७) ।

अकवाणिय देखो अक-वणिय (राय १२६) ।

अकार पुं [दे] सहायता, मदद (दे १, ६) ।
 अंकावई ली [अङ्कावती] १ महाविदेह क्षेत्र
 के रम्य नामक विजय की राजधानी (ठा २) ।
 मेरु की पश्चिम दिशा में बहती हुई शीतोदा
 म हानदी की दक्षिण दिशा में वर्तमान एक
 वक्षस्कार पर्वत (ठा ५, २) ।
 अंकिअ न [दे] आरिगन (दे १, ११) ।
 अकिअ वि [अङ्कित] चिह्नित, निशानवाला
 (औप) ।
 अकिइल पु [दे] नट, नर्तक, नचवैया (राया
 १, १) ।
 अकुडग पु [अङ्कुटक] नागदन्तक, खूँटी-
 ताख (ज १) ।
 अकुर पु [अङ्कुर] प्ररोह, फुनगी (जी ६) ।
 अकुरिय वि [अङ्कुरित] अकुर-युक्त, जिसमें
 अकुर उत्पन्न हुए हो वह (उवा) ।
 अकुस पु [अङ्कुश] १ श्राकडी, लोहे का
 एक हथियार, जिससे हाथी चलाये जाते हैं,
 'अकुसेण जहा रागो धम्मे सपडिवाइओ'
 (उत्त २२) । २ ग्रह-विशेष (ठा २, ३) । ३
 सीता का एक पुत्र, कुस (पउम ६७, १६) ।
 ४ नियन्त्रण करनेवाला, काबू में रखनेवाला
 (गउड) । ५ एक देव-विमान (राज) । ६ पुन
 गुरु-वन्दन का एक दोष (पव २) ।
 अकुस पुन [अङ्कुश] १ एक देव-विमान
 (देवेन्द्र १४०) । २ पु अकुशाकार खूँटी
 (राय ३७) ।
 अकुसइय न [दे अकुशित] अकुश के आकार-
 वाली चीज (दे १, ३८, से ६, ६३) ।
 अकुसय पु [अङ्कुशक] देखो अकुस । २
 सन्यासी का एक उपकरण, जिससे वह देव-
 पूजा के वास्ते वृक्ष के पल्लवों को काटता है
 (औप) ।
 अकुसा ली [अङ्कुशा] चौदहवें तीर्थंकर श्री
 अनन्तनाथ भगवान् की शासन-देवी (पव २८) ।
 अकुसिअ वि [अङ्कुशित] अकुश की तरह
 मुड़ा हुआ (से १४, २६) ।
 अकुसी ली [अङ्कुशी] देखो अकुसा
 (सति १०) ।
 अकूर देखो अंकुर, 'सा पुण विरत्तमिता
 निवकूरे विसेसेइ' (सुअनि ६१ टी) ।

अकेलण न [दे] घोडा आदि को मारने का
 चाबुक, कोडा, श्रौंगी (ज ४) ।
 अकेल्लि पु [दे] अशोक-वृक्ष (दे १, ७) ।
 अकोल पु [अङ्कोठ] वृक्ष-विशेष (हे १, २००) ।
 अग न पु [अङ्ग] १ इस नाम का एक देश,
 जिसको आजकल विहार कहते हैं (सुर २,
 ६७) । २ रामका एक सुभट (पउम ५६, ३७) ।
 ३ न आचाराग सूत्र आदि बारह जैन आगम-
 ग्रथ (विपा २, १) । ४ वेदाग, वेद के शिक्षादि
 छ अग (आचू) । ५ कारण, हेतु (पव १) ।
 ६ आत्मा, जीव (भवि) । ७ पुन शरीर
 (प्रासू ८४) । ८ शरीर के मस्तक आदि अवयव
 (कम्म १, ३४) । ९ अ मित्रता का आम-
 न्त्रण, सम्बोधन (राय) । १० वाक्यालकार
 में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (ठा ४) । 'इ पु
 [जित्] इस नामका एक गृहस्थ, जिसने
 भगवान् पार्ष्वनाथ के पास दीक्षा ली थी
 (निर) । 'इसि पु [पि] चपा नगरी का
 एक क्षत्रिय (आचू) । [चूलिया] ली
 [चूलिका] अग-ग्रथों का परिशिष्ट (पक्खि) ।
 'च्छहिय वि [छिन्नाङ्ग] जिसका अग
 काटा गया हो वह (सूअ २, २, ६३) ।
 'जाय वि [जात] बच्चा, लडका (उप
 ६४८) । 'द देखो 'थ = 'द (ठा ८) ।
 'पचित्त न [प्रविष्ट] १ वारह जैन अग-ग्रथों
 में से कोई भी एक (कम्म १, ६) । २ अग-
 ग्रथों का ज्ञान (ठा २, १) । 'वाहिर न
 [वाह्य] १ अग-ग्रथों के अतिरिक्त जैन आगम
 (आचू) । २ अग-ग्रथों से भिन्न जैन आगमों का
 ज्ञान (ठा २) । 'मग न [मङ्ग] १ अंग-प्रत्यग
 (राय) । २ हर एक अवयव (पड) । 'मदिर
 न [मन्दिर] चम्पा नगरी का एक देव-गृह
 (भग १, १) । 'मद, 'मदय पु [मदे,
 'मदेक] १ शरीर की चर्पी करनेवाला नोकर ।
 २ वि शरीर को मलनेवाला, चर्पी करनेवाला
 (सुपा १०८, महा, भग ११, १) । 'य पु
 [द] १ वाली नामक विद्याधरराज का
 पुत्र (पउम १०, १०, ५६, ३७) । २ न
 वापूदद, केहुटा (पगह १, ४) । 'य वि
 [ज] १ शरीर में उत्पन्न । २ पु पुत्र,
 लडका (उप १३४ टी) । 'या ली [जा]
 कन्या, पुत्री (पाअ) । 'रक्ख, 'रक्खग नि

[रत्त, 'रक्ख] शरीर को रक्षा करनेवाला
 (सुपा ५२७, इक) । 'राग, 'राय पु [राग]
 शरीर में चन्दनादि का विलेपन (श्रीप, ना
 १८६) । 'राय पु [राज] १ अगदेश ना
 राजा (उप ७६५) । अग देश का राजा कर्ण
 (साया १, १६, वेणी १०४) । 'रिसि देतो
 'इसि । 'रुह वि [रुह] देखो 'य = 'ज
 (सुपा ५१२, पउम ५६, ३२) । 'रुहा ली
 [रुहा] पुत्री, लडकी (सुपा १५०) । 'विज्जा
 ली [विद्या] १ शरीर के स्फुरण का शुभा
 शुभ फल बतलानेवाली विद्या (उत्त ८) । २ ज
 नाम का एक जैन ग्रथ (उत्त ८) । 'वियार पु
 [विचार] देखो पूर्वोक्त अर्थ (उत्त १५) ।
 'सभूय वि [सभूत्] सतान, बचा (ज
 ६४८) । 'हारय पु [हारक] शरीर के
 अवयवों के विक्षेप, हाव-भाव (भजि ३१) ।
 'दाण न [दान] पुरुषेन्द्रिय, पुरुष चि
 (निसी) ।
 अग पु [अङ्ग] भगवान् आदिनाथ के एक पुत्र
 का नाम (ती १४) । २ न लगातार बरह
 दिनों का उपवास (सबोध ५८) । 'ज देखो
 'य (धर्मवि १२६) । 'हर वि [धर] अङ्ग-
 ग्रथों का जानकार (विचार ४७३) ।
 अंग वि [अङ्ग] १ शरीर का विचार (ठा
 ८) । २ शरीर-सबधों, शारीरिक (सुप २,
 २) । ३ न शरीर के स्फुरण आदि विकारा में
 शुभाशुभ फल को बतलानेवाला शास्त्र, निमित्त-
 शास्त्र (सम ४६) ।
 'अग वि [चङ्ग] मुन्दर, मनोहर (भवि) ।
 अगइया ली [अङ्गदिका] एक नगरी, तीर्थ-
 विशेष (उप ५५०) ।
 अंगगीभाव पु [अङ्गाङ्गीभाव] अग्नेय भाव,
 अभिन्नता, 'अगगीभावेण परिणएणअप्रसि-
 जिणवम्मे' (सुपा २१८) ।
 अगण न [अङ्गण] आगन, चीक (सुर ३,
 ७१) ।
 अगणा ली [अङ्गना] ली, शीरन (सुर १,
 १८) ।
 अगदिआ देगो अङ्गइया (ती) ।
 अगवट्टण न [ट] रोग, बीमारी (दे १,
 ४८) ।

अगारलिङ्ग न [दे] शरीर को मोडना (दे १, ४२)।

अगार पु [अङ्गार] १ जलता हुआ कोयला (हे १, १७)। २ जैन साधुओं के लिए भिक्षा का एक दोष (आचा)। महार पु [महार्क] एक अभ्यस्त जैन-आचार्य (उप २५४)। वई श्री [वती] सुसुमार नगर के राजा धुधुमार की एक कन्या का नाम (धम्म ८ टी)।

अगारा पु [अङ्गारक] १-२ उपर देखो अगारय (गा २६१)। ३ मगल-ग्रह (परह १, ५)। ४ पहला महाग्रह (ठा २)। ५ राक्षस-वंश का एक राजा (पउम ५, २६२)।

अगारिय वि [अङ्गारित] कोयले की तरह जला हुआ, विवर्ण (नाट, आचा)।

अगाल देखो अगार, 'निदड्डगालनिम' (पिड ६७५)।

अगालग देखो अगारग (राज)।

अगालिय न [दे] ईश का टुकड़ा (दे १, २८)।

अगालिय देखो अगारिय (आचा)।

अगि पु [अङ्गिन्] १ प्राणी, जीव (गरण ८)। २ वि शरीरवाला। ३ अग-ग्रन्थों का नाम (कप्प)।

अगिरस न [अङ्गिरस] एक गोत्र, जो गोतम-गोत्र की शाखा है (ठा ७)।

अगिरस वि [आङ्गिरस] १ अगिरस-गोत्र में उत्पन्न (ठा ७)। २ पु एक तापस (पउम ४, ८६)।

अगीरुह } वि [अङ्गीकृत] स्वीकृत (ठा ५, अगीरुह } सुपा ५२६)।

अगीकर } सक [अङ्गी+कृ] स्वीकार अगीकृत } करना। अगीकरेइ (महा, नाट)। अगीकरेहि (म ३०६) सङ्ग अगीकरेऊण (निम २६८२)।

अगुअ पु [इङ्गुद] १ वृक्ष-विशेष। २ न सुन्द वृत्त का पत्र (हे १, ८६)।

अगुद पु [अङ्गुद] अगुदा (ठा १०) पामप पु [अङ्गुद] १ एक विद्या। २ अ-आकरण मूत्र का एक लुप्त अव्ययन (ठा १०)।

अगुदु श्री [दे] मिरका अवपुण्ड्र, ध्रुवट (१, ६, ८, २८)।

अङ्गुथल न [दे] अगुठी, अगुलीय (दे १, ३१)।

अगुञ्चभव वि [अङ्गोद्भव] सतान, बचा (उप २६४)।

अगुम सक [पूरय] पूर्ति करना, पूरा करना। अगुमइ (हे ४, ६८)।

अगुमिय वि [पूरित] पूर्ण किया हुआ (कुमा)।

अङ्गुरि, ०री श्री [अङ्गुलि, ०ली] उगली (गा २७७)।

अगुल न [अङ्गुल] यव के आठ मध्यभाग के बराबर का एक नाप, मान-विशेष (भग ३, ७)। ०पोहत्तिय वि [०पृथक्त्वक] दो से लेकर नव अगुल तक का परिमाण वाला (जीव १)।

अगुलि श्री [अङ्गुलि] उगली (कुमा)।

०कोस पु [०कोश] अगुलि-त्राण, दास्ताना (राय)। ०फोडण न [०फोटन] उगली फोडना, कड़ाका करना (तट्ट)।

अगुलिअ } न [अङ्गुलीयक] अगुठी अगुलिञ्जक } (दे ५, ६, कप्प, पि २५२)। अगुलिञ्जग

अगुलिणी श्री [दे] प्रियगु, वृक्ष-विशेष (दे १, ३२)।

अगुली श्री [अङ्गुली] देखो अङ्गुलि (कप्प)।

अगुलीय } पुन [अङ्गुलीयक] अगुठी अगुलीयग } (सुर १०, ६४), 'पायवडि-एण सामिय। समप्पिओ अगुलीयओ तीए' (पउम ५४, ६, सुर १, १३२, पि २५२, अगुलेयय } पउम ४६, ३९)।

अगुलेयग देखो अगुलेयय (सुज २, २६)।

अगुवग } न [अङ्गोपाङ्ग] १ शरीर के अगोवग } अवयव (परण २३)। २ नख वगैरह शरीर के छोटे-छोटे अवयव, 'नहकेसम-सुअगुलीओइहा खलु अगोवगाणि' (उत्त ३)। ०गाम न [०नामन्] शरीर के अवयवों के निर्माण में कारण-भूत कर्म-विशेष (कम्म १, ३४, ४८)।

अगोइलि श्री [दे] शिर को छोड़कर बाकी शरीर का स्नान (उप पु २३)।

अङ्घो अ [अङ्ग] भय-सूचक अव्यय (प्रति ३६, प्रयो २०५)।

अच सक [कृष्] १ खीचना। २ जोतना, चास करना। ३ रेखा करना। ४ उठाना। अचइ (हे ४, १८७)। सङ्ग अचेइत्ता (आव)। अच सक [अञ्च] पूजना, पूजा करना। अचए (भवि)।

अच सक [अञ्च] जाना। अचति (पचा १६, २३), 'अञ्चु गइ पूयणम्मि य', 'सोधीए पारमचइ' (बृह ४)।

अचल पु [अञ्चल] कपड़े का शेष भाग (कुमा)।

अचि पु [अञ्चि] गमन, गति (भग १५)।

अचि पु [आञ्चि] आगमन, आना (भग १५)।

अचिय वि [अञ्चित] १ युक्त, सहित (सुर ४, ६७)। २ पूजित (सुपा २१८)। ३ प्रशस्त, श्लाघित (प्रासू १८)। ४ न एक प्रकार का नृत्य (ठा ४, ४, जीव ३)। ५ एक बार का गमन (भग १५)। ०यचि पु [०ञ्चि] १ गमनागमन, आना जाना (भग १५)। २ ऊचा-नीचा होना (ठा १०)।

अचियरिभिय न [अञ्चितरिभित] एक तरह का नाट्य (राय ५३)।

अचिया श्री [अञ्चिका] आकर्षण (स १०२)। अछ सक [कृष्] १ खीचना, अछति वासु-देव अगडतडम्मि ठिय सत' (विसे ७६४)।

२ अक लम्बा होना। वरु अछमाण (विसे ७६९)। प्रयो अछावेइ (साया १, १)।

अछण न [कर्षण] खींचाव (परह २, ५)। अछिय वि [दे] आकृष्ट, खींचा हुआ (दे १, १४)।

अज सक [अञ्ज] आजना। कृ अंजियञ्च (स ५४३)।

अजण पु [अञ्जण] १ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज २०)। २ देव-विशेष (सिरि ६६७)।

अजण पु [अञ्ज] १ पर्वत-विशेष (ठा ५)। २ एक लोकपाल देव (ठा ४)। ३ पर्वत-विशेष का एक शिखर, जो दिग्हस्ती कहा जाता है (ठा २, ३, ८)। ४ वृक्ष-विशेष (आव)। ५ न एक जाति का स्तन (साया १, १)। ६ देवविमान-विशेष (सम ३५)। ७ काजल, कजल (प्रासू ३०)। ८ जिसका

सुरमा बनता है ऐसा एक पार्थिव द्रव्य (जी ४) । ६ आखको आजना (सूत्र १, ६) । १० तैल आदि से शरीर की मालिश करना (राज) । ११ लेप (स ५८२) । १२ रत्नप्रभा पृथिवी के खर-काएड का दशवां अंश-विशेष (ठा १०) । °केसिया स्त्री [°केशिआ] वनस्पति-विशेष (पएण १७, राय) । °जोग पु [°योग] कला-विशेष (कप्प) । °दीव पु [°द्वीप] द्वीप-विशेष (इक) । °पुलय पु [°पुलक] एक जाति का रत्न (ठा १०) । २ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा ८) । °पहा स्त्री [°प्रभा] चौथी नरक-पृथिवी (इक) । °रिट्ट पु [°रिट्ट] इन्द्र-विशेष (भग ३, ८) । °सलागा स्त्री [°शलाका] १ जैन-मूर्तिकी प्रतिष्ठा । २ अजन लगाने की सलाई (सूत्र १, ५) । °सिद्ध वि [°सिद्ध] आख मे अजन-विशेष लगाकर अदृश्य होने की शक्तिवाला (निष्ठी) । °सुन्दरी स्त्री [°सुन्दरी] एक सती स्त्री, हनुमान की माता (पउम १५, १२) ।

अंजणइसिआ स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, श्याम तमाल का पेड़ (दे १, ३७) ।

अजणई स्त्री [दे] वल्ली-विशेष (पएण १) । अजणईस न [दे] देखो अंजणइसिआ (दे १, ३७) ।

अजणग देखो अजण ।

अजणा स्त्री [अजना] १ हनुमान की माता (पउम १, ६०) । २ स्वनाम-ख्यात चौथी नरक-पृथिवी (ठा २, ४) । ३ एक पुष्करिणी (ज ४) । °तणय पु [°तनय] हनुमान (पउम ४७, २८) । °सुन्दरी स्त्री [°सुन्दरी] हनुमान की माता (पउम १८, ५८) ।

अजणाभा स्त्री [अजनाभा] चौथी नरक-पृथिवी (इक) ।

अजणिआ स्त्री [दे] देखो अजणइसिआ (दे १, ३७) ।

अजणी स्त्री [अजनी] कजल का आधार-पात्र (सूत्र १, ४) ।

अजलि, °ली पुस्त्री [अजलि] १ हाथ का सपुट (हे १, ३५) । एक या दोनो संकुचित हाथो को ललाट पर रखना, 'एणे' वा दोहि का मउलिएहि ह्येहिं रिणालससितेहिं अजली भएणति' (निष्ठी) । ३ कर-सपुट, नमस्कार

रूप विनय, प्रणाम (प्राप् ११०, स्वप्न ६३) । °उड पु [°पुट] हाथ का सपुट (महा) । °करण न [°करण] विनय-विशेष, नमन (दे) । °पग्गह पु [°प्रग्रह] १ नमन, हाथ जोडना (भग १४, ३) । २ सभोग-विशेष (राज) ।

अजस वि (दे) ऋजु, सरल (दे १, १४) ।

अजिय वि [अजित] आजा हुआ, अजन-युक्त किया हुआ (से ६, ४८) ।

अजु वि [अजु] १ सरल, अकुटिल, 'अजुवम्मं जहा तच्च, जिणएण तह सुणेह मे' (सूत्र १, १, १, ४, ८) । २ समय में तत्पर, समयी, 'पुट्टोवि नाइवत्तइ अजु' (आचा) । ३ स्पष्ट, व्यक्त (सूत्र १, १) ।

अजुआ स्त्री [अजुआ] भगवान् अनन्तनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) ।

अंजू स्त्री [अंजू] १ एक सार्थवाह की कन्या (विपा १, १०) । २ 'विपाकभ्रुत' का एक अध्ययन (विपा १, १) । ३ एक इन्द्राणी (ठा ८) । ४ 'ज्ञाताधर्मकथा' सूत्र का एक अध्ययन (शाया २) ।

अठि पुन [अस्थि] हड्डी, हड (पड), 'अहिअमहुरस्स अठस्स अजोगगाए अठो न भक्खीअदि' (चार ६) ।

अड } न [अएड, °क] १ अडा (कप्प, औप) । २ अड-कोश (महानि ४) ।
अडअ } ३ 'ज्ञाताधर्मकथा' सूत्र का तृतीय अध्ययन (शाया १, १) । °कड वि [°कृत] जो अएडे से बनाया गया हो, 'वभखा माहया एगे, आह अएडकडे जगे' (सूत्र १, ३) । °वध पु [°वन्ध] मन्दिर के शिखर पर रखा जाता अएडाकार गोला (गउड) । °वाणियय पु [°वाणिजक] अएडो का व्यापारी (विपा १, ३) ।

अडग } वि [अएडज] १ अएडे से पैदा होनेवाले जंतु, पक्षी, साप, मछली वगैरह (ठा ३, १, ८) । २ देशम का धामा । ३ देशमी वस्त्र (उत्त २६) । ४ शण का वस्त्र (सूत्र २, २) ।

अडय पु [दे, अएडज] मछली, मत्स्य (दे १, १६) ।

अडाउय वि [अएडज] अएडे से पैदा होने वाला (पउम १०२, ६७) ।

अत पु [अन्न] १ स्वरूप, स्वभाव (से ६, १८) । २ भ्रान्त भाग (से ६, १८) । ३ सीमा, हृद (जी ३३) । ४ निकट, नजदीक (विपा १, १) । ५ भय, विनाश (विते ३४५५, जी ४८) । ६ निर्णय, निश्चय (ठा ३) । ७ प्रदेश, स्थान, 'एगतमत्तभवकमड' (भग ३, २) । ८ राग और द्वेष, 'दोहि अतेहि अदिस्समाणो' (आचा) । ९ रोग, बीमारी (विते ३४५४) । १० वि इन्द्रियो को प्रतिकूल लगनेवाली चीज, असुन्दर, नीरस वस्तु (पएह २, ४) । ११ मनोहर, सुन्दर (से ६, १८) । १२ नीच, क्षुद्र, तुच्छ (कप्प) । °कर वि [°कर] उसी जन्म में मुक्ति पानेवाला (सूत्र १, १५) । °करण वि [°करण] नशक (पएह १, ६) । °काल पु [°काल] १ मृत्यु काल । २ प्रलय काल (से ५, ३२) ।

°किरिया स्त्री [°क्रिया] मुक्ति, ससार का अन्त करना (ठा ४, १) । °कुल न [°कुल] क्षुद्र कुल (कप्प) । °गड वि [°कृत] वही जन्म में मुक्ति पानेवाला (उप ४६१) । °गडदसा स्त्री [°कृदशा] जैन भ्रग-ग्रथों में आठवां भ्रग-ग्रथ (अएण १) । °चर वि [°चर] भिक्षा में नीरस पदार्थों की ही खान करनेवाला (पएह २, १) ।

अत वि [अन्त्य] अन्तिम, अन्त का (पएण १५) । °कखरिया स्त्री [°क्षरिका] १ ब्राह्मी लिपि का एक भेद (पएण १) । २ कला-विशेष (कप्प) ।

अत न [अन्त्र] आत (सुपा १२२, ग ५८५) ।

अत अ [अन्तर] मध्य में, बीच में (ह १, १४) । °उर न [°पुर] देखो अनेउर (नाट) । °करण, °कारण [°करण] मन, हृदय, 'कहणारसपरवसतकरणेण' (उप ६ टी, नाट) । °ग्गय वि [°गत] मध्यवर्ती, बीचवाला (हे १, ६०) । °डा स्त्री [°धा] १ तिरिवाण । २ नारा (आचू) । °धान न [°धान] अदृश्य होना, तिराहित हान

(उप १३६ टी) । °द्वाणी स्त्री [°धानी] जिसमे अदृश्य हो सके ऐसी विद्या (सूत्र २, २) । °द्वाभूअ वि [°धाभूत] नष्ट, विगत, 'नष्टेति वा विगतेति वा अतद्वाभूतेति वा एण्हा' (आच्) । °प्पाअ पु [°पात] अन्तर्भाव, समावेश (हे २, ७७) । °भाव पु [°भाव] समावेश (विसे) । °मुहुत्त न [°मुहूर्त] कुछ कम मुहूर्त, न्यून मुहूर्त (जी १४) । °रद्धा स्त्री [°धा] १ तिरोधान । २ नाश, 'बुद्धो सद्धअन्तरद्धा' (श्रा १६) । °रद्धा स्त्री [°अद्धा] मध्य-काल, बीच का समय (आच्) । °रप्प पु [°आरमन्] आत्मा, जीव (हे १, १४) । °रहिय, °रिहिद (श्री) वि [°हित] १ व्यवहित, अंतराल-युक्त (आच्) । २ गुप्त, अदृश्य (सम ३६, उप १६६ टी, श्रमि १२०) । °वेइ पु [°वेदि] गंगा और यमुना के बीच का देश (कुमा) । °अत वि [°कान्त] सुन्दर, मनोहर (से १, ५६) । अतअ वि [आयात्] आता हुआ (से ६, ४६) । अतअ वि [अन्तग] पार-नामी, पार-प्राप्त (से ६, १८) । अतअ वि [अन्तद] १ अविनाशी, शाश्वत । २ जिसकी सीमा न हो वह (से ६, १८) । अतअ } वि [अन्तक] १ मनोहर, सुन्दर अतग } (से ६, १८) । २ अन्तर्गत, समाविष्ट (सूत्र १, १५) । ३ पर्यन्त, प्रान्त माग, 'जे एन परिभासति अन्तए ते समाहिए' (सूत्र १, ३) । ४ यम, मृत्यु (से ६, १८, उप ६६६ टी), 'समागम कखति अन्तगस्स' (सूत्र १, ७) । अतग वि [अन्तग] १ पार-नामी । २ दुष्पण, जो बठिनाई से छोड़ा जा सके, 'विचाए अन्तग मोय निरवेक्खो परिच्चए' (सूत्र १, ६) । अतगय वेवो अत-गाय (वच १) । °अतग न [अन्वग] बचन, नियन्त्रण (प्रयौ २२) । अतद्वाग वि [अन्तर्धान] तिरोधान-कर्त्ता (पिड ४००) ।

अतन्भाव देखो अत-भाव (अष्क १४२) । अंतर न [अन्तर] १ मध्य, भीतर, 'गामंतरे पविट्ठो सो' (उप ६ टी) । २ भेद, विशेष, फरक (प्रासू १६८) । ३ अवसर, समय (एयाया १, २) । ४ व्यवधान (ज १) । ५ अवकाश, अन्तराल (भग ७, ८) । ६ विवर, छिद्र (पात्र) । ७ रजोहरण । ८ पात्र । ९ पुं आचार, कल्प । १० सूत के कपडे पहनने का आचार, सौत्र कल्प (कप्प) । °कप्प पु [°कल्प] जैन साधु का एक आत्मिक प्रशस्त आचरण (पच्) । °कद पु [°कन्द] कन्द की एक जाति, वनस्पति-विशेष (पएण १) । °करण न [°करण] आत्मा का शुभ अथवा-वसाय-विशेष (पच) । °गिह न [°गृह] १ घर का भीतरी भाग । २ दो घरों के बीच का अंतर (बृह ३) । °णई स्त्री [°नदी] छोटी नदी (ठा ६) । °दीव पु [°द्वीप] १ द्वीप-विशेष (जी २३) । २ लवण समुद्र के बीच का द्वीप (पएण १) । °सत्तु पु [°शत्रु] भीतरी शत्रु, काम-क्रोधादि (सुपा ८५) । अतर सक [अन्तरय्] व्यवधान करना, बीच में डालना । अतरेहि, अतरेमि (विक्र १३६) । अतर वि [आन्तर] १ अभ्यन्तर, भीतरी, 'सयलमुराएपि अतरो अप्पासो' (अच्छु २०) । २ मानसिक (उवर ७१) । अतरंग वि [अन्तरङ्ग] भीतरी (विसे २०२७) । अंतरंजी स्त्री [आन्तरंजी] नगरी-विशेष (विसे २३०३) । अतरपल्ली स्त्री [अन्तरपल्ली] मूल स्थान से ढाई गब्यूत की दूरी पर स्थित गांव (पव७०) । अतरमुहुत्त देखो अत-मुहुत्त (पच २, १३) । अतरा अ [अन्तरा] १ मध्य में, बीच में (उप ६५४) । २ पहले, पूर्व में (कप्प) । अतराइय न [आन्तरायिक] १ कर्म-विशेष, जो दान आदि करने में विघ्न करता है (ठा २) । २ विघ्न, रुकावट (पएह २, १) । अतराइय न [अन्तरायीय] ऊपर देखो (सुपा ६०१) ।

अंतरापह पु [अन्तरापथ] रास्ता का बीचला भाग (सुख १, १५) । अतराय पुन [अन्तराय] देखो अतराइय (ठा २, ४, स २०३) । अतराल पु [अन्तराल] अंतर, बीच का भाग (अभि ८२) । अतरावण पुन [अन्तरापण] दूकान, हाट (चार ३) । अतरावास पु [अन्तरवर्ष, अन्तरावास] वर्षा-काल (कप्प) । अतरिस्ख पुंन [अन्तरिच्छ] अन्तराल, आकाश (भग १७, १०, स्वप्न ७०) । °जाय वि [°जात] जमीन के ऊपर खड़ी हुई प्रासाद, मन्च आदि वस्तु (आच् २, ५) । °पासणाह पु [°पार्थनाथ] खानदेश में अकोला के पास का एक जैन-तीर्थ और वहाँ की भगवाव श्रीपार्वनाथ की मूर्ति (ती) । अतरिक्ख वि [आन्तरिच्छ] १ आकाश-संबंधी, आकाश का (जी ५) । २ ग्रहों के परस्पर युद्ध और भेद का फल बतलानेवाला शास्त्र (सम ४६) । अतरिज्ज न [अन्तरीय] १ वस्त्र, कपड़ा । २ शय्या का नीचला वस्त्र, 'अतरिज्ज एामणियसण, अहवा अतरिज्ज नाम सेज्जाए हेट्ठिल्लं पोत्त' (निच् १५) । अंतरिज्ज न [दि] करघनी, कटीसूत्र (दे १, ३५) । अतरिज्जिया स्त्री [अन्तरीया] जैनीय वैश्वाटिक गच्छ की एक शाखा (कप्प) । अतरित } वि [अन्तरित] व्यवहित, अतर-वाला (सुर ३, १४३, से १, २७) । अतरिय } अंतरिया स्त्री [दि] समाप्ति, अत (ज २) । अतरिया स्त्री [अन्तरिका] छोटा अन्तर, थोड़ा व्यवधान (राय) । अतरीय न [अन्तरीप] द्वीप, 'सरवरगिहत-राले जिणभवण आसि अतरीय व' (धर्मवि १४३) । अतरेण अ [अन्तरेण] बिना, सिवाय (जत्त १) ।

अंतरेण अ [अन्तरेण] बीच मे, मध्य मे (स ७६७)।

अनलिक्ख देखो अनरिक्ख (राया १, १, चाह ७)।

अति देखो पति (से ६, ६६)।

अतिम वि [अन्तिम] चरम, शेप, अन्त्य (ठा १)।

अतिथ न [अन्तिक] १ समीप, निकट (उत्त १)। २ अत्रसान, अत्र, 'अह भिक्खू गिलाएजा आहारस्सेव अतिया' (आचा १, ८)। ३ अन्तिम, चरम (सूत्र २, २)।

अतीहरी स्त्री [दे] हूती (दे १, ३५)।

अतेआरि वि [अन्तआरिन्] बीच मे जानेवाला, बीचक (हे १, ६०)।

अतेउर न [अन्त पुर] १ राजस्त्रियो का निवासगृह। २ रानी, 'सणकुमारो वि तेसि वदणत्थ सतेउरो गम्भो तमुजाण' (महा)।

अतेउरिगा स्त्री [आन्त पुरिकी, 'री] अन्त पुर मे रहनेवाली स्त्री, अन्तउरी } राजी (उप ६ टी, सुपा २२८, २८६)। २ रोगी का नाममात्र लेने से उसको नीरोग बनानेवाली एक विद्या (वव ५)।

अतेल्ली स्त्री [दे] १ मध्य, बीच। २ उदर, पेट। ३ कल्लोल, तरंग (दे १, ५५)।

अतेवासि वि [अन्तेवासिन्] शिष्य (कप्प)।

अतेवुर देखो अतेउर (प्रति ५७)।

अंनो अ [अन्तर] बीच, भीतर, 'गामतो सपत्ता' (उप ६ टी, सुर ३, ७४)। 'खरिया स्त्री [खरिका] नगर मे रहनेवाली वेश्या (भग १५)। 'गइया स्त्री [गत्तिका] स्वागत के लिए सामने जाना, 'सव्वाए विभूईए अतोगइयाए तण्यस्स' (सुर १५, ३६१)। 'गय वि [गन्] मध्यवर्ती, समाविष्ट (उप ६८६ टी)। 'णिअसणी स्त्री [निवसनी] जैन साध्वियो को पहनने का एक वस्त्र (बृह ३)। 'दहण न [दहन] हृदय-दाह (तट्ट)। 'मग्भाव-साणिय पुन [मग्भावसानिक] अभिनय का एक भेद (राय)। 'मुहुत्त न [मुहूर्त्त] कम मुहूर्त्त, ४८ मिनट से कम समय

(कप्प)। 'वाहिणी स्त्री [वाहिनी] सुद नदी (ठा २, ३)। 'वीसंभ पु [विश्रम्भ] हादिक विश्वास (हे १, ६०)। 'सल्ल न [शल्य] १ भीतरी शल्य, घाव (ठा ५)। २ कपट, माया (श्रौप)। 'साला स्त्री [शाला] घरका भीतरी भाग, 'कोलालभड अतोसालाहितो वहिया नीणेइ' (उवा, पि ३४३)। 'हुत्त वि [मुख] भीतर, 'अताहुत्त डग्गइ जायासुएणे घरे हलिअउत्तो' (गा ३७३)।

अतोहुत्त वि [दे] अधोमुख, श्रौघा मुह वाला (दे १, २१)।

अत्रडी (अप) स्त्री [अन्त्र] आत, आतो (हे ४, ४४५)।

'अद पु [चन्द्र] १ चन्द्रमा, चाद 'पसुव-इणो रोसाएणपडिमासकृतगोरिसुहअद' (गा १)। २ कपूर (से ६, ४७)। 'राअ पु ('राग) चन्द्रकान्त मणि (से ६, ४७)।

'अदरा स्त्री [कन्दरा] गुफा (से ६, ४७)।

'अदल पु [कन्दल] वृक्ष-विशेष (से ७, ४७)।

'अदावेदि (शौ) देखो अतावेइ (हे ४, २८६)।

अदु } स्त्री [अन्दु] शूखला, जजीर
अदुया } (श्रौप, स ५३०)।

अदेउर (शौ) देखो अतेउर (हे ४, २६१)।

अदोल अक [अन्दोल] १ हिचकना, झूलना। २ कपना, हिलना। ३ सद्विघ होना, 'अदोलइ दोलासु व माणो गल्लोवि विलयाए' (स ५२१)। वक्क अदोलत्त, अदोलित, अदोलमाण (से ८, ५१, ११, २५, सुर ३, ११६)।

अदोल सक [अन्दोल्य] कपाना, हिलाना। वक्क अदोलत्त (सुर ३, ६७)।

अदोलग पुं [आन्दोलक] हिडोला (राय)। अदोलण न [आन्दोलन] १ हिचकना, झूलना (सुर ४, २२५)। २ हिडोला। ३ मार्ग-विशेष (सूत्र १, ११)।

अदोलय देखो अदोलग (सुर ३, १७५)। अदोलि वि [आन्दोलिन्] हिलानेवाला, कपानेवाला (गा २३७)।

अदोलि वि [आन्दोलिन्] झूलनेवाला (सुपा ७८)।

अदोल्लण देखो अदोलण।

अंध वि [अन्ध] १ अन्धा, नेत्र-हीन (विपा १, १)। २ अज्ञान, ज्ञानरहित 'एए ए अथा मूढा तमप्पइट्टा' (भग ७, ७)। 'कंठइज्ज न [कण्ठकीय] अघपुरुष के कटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना (आचा)। 'तम न [तमस] निविड अन्न कार (सूत्र १, ५)। 'पुर न [पुर] नगर विशेष (बृह ४)।

अध पु [अन्ध] पाचवाँ नरक का चौथा नरकेन्द्रक, एक नरक-स्थान (द्वेन्द्र ११)।

अध पु व [अन्ध्र] इस नाम का एक देश (पउम ६८, ६७)।

अध वि [आन्ध्र] आन्ध्र देश का रहनेवाला (परह १, १)।

अधधु पु [दे] कूप, कुँआ (दे १, १८)।

अधकार देखो अंधयार (चद ४)।

अधग पु [दे] वृक्ष, पेड़ (भग १८, ४)। 'वण्ह पु [वह्नि] स्थूल अग्नि (भग १८, ४)।

अधग देखो अध (भग १८, ४)। 'वणि पु [वह्नि] सूक्ष्म अग्नि (भग १८, ४)। 'वण्ह पु [वृष्णि] यदुवश का एक राज जो समुद्रविजयादि के पिता था (अत २)।

अधय } पु [अन्धक] १ अघा, ने
अधयग } हीन (परह १, २)। २ वश का एक राज कुमार (पउम ६, १८६)।

अधयार पुन [अन्धकार] अघेरा, अघ (कप्प, स ४२६)। 'पकर पु [प कृष्णपक्ष (सुज १३)।

अधयारण न [अन्धकार] अघेरा (अभि अधयारिय वि [अन्धकारित] अघवाला (से १, १५, ६३)।

अंधरअ } वि [अन्ध] अघा, ने
अवल } (गा ७०४, हे २, १७)।

अवलरिडी स्त्री [अन्धयित्री] अघवाली एक विद्या (सुपा ४२८)।

अधार पु [अन्धकार] अघेरा (श्रौघ २७०)।

अवार सक [अन्धकार्य] अन्धकार-युक्त करना। कर्म 'मेहच्छन्ने सुरे अवारिज्जइ न कि भुवण' (कुप्र ३८७)।

अधारिय वि [अन्धकारित] अंधकार वाला (सुपा ५४, सुर ३, २३०)।

अधाव सक [अन्धय] अधा करना। अधा-वइ (विक्र ८४)।

अधिअ वि [अन्धित] अन्ध बना हुआ (सम्मत १२१)।

अधिआ स्त्री [अन्धिआ] अन्ध-विशेष (दे २, १)।

अधिआ स्त्री [अन्धिका] चतुरिन्द्रिय जतु की एक जाति (उत्त ३६, १४७)।

अधिह्य वि [अन्ध] अन्धा, जन्मान्ध (परह ३)।

अधिह्य वि [अन्धीकृत] अंध किया (दे २, १)।

अन्धु कूप, कुंआ (प्राभा: दे १, १८)।

अधिल्लग देखो अधिल्लग (पिएड)।

अप पु [कम्प] कपन (से ५, ३२)।

अप पु [अम्ब] एक जात के परमाधार्मिक देव, जो नरक के जीवों को दुख देते हैं (सम २८)।

अप पु [आम्र] १ आम का पेड़। २ न आम, आम्र-फल (हे १, ८४)। ३ गड्डिया स्त्री [दे] आम की आठी, गुठली (निचू १५)।

आयग न [दे] १ आम का रूखा (निचू १५)। २ आम की छाल (आवा २, ७, २)।

डगल न [दे] आम का टुकड़ा (निचू १५)।

डालग न [दे] आम का छोटा टुकड़ा (माना २, ७, २)। १ पेशिया स्त्री [पेशिका] आम का लम्बा टुकड़ा (निचू १५)। २ भित्त न [दे] आम का टुकड़ा (निचू १५)। ३ सालग न [दे] आम की छाल (निचू १५)। ४ सालवण न [शालवण] चैत्य-विशेष (राय)।

अप न [अम्ब] १ तक, मट्टा (ज ३)। २ खट्टा न। ३ मट्टी चीज (विने)। ४ वि निष्ठुर वचन बोलनेवाला (वृह १)।

अप वि [अम्ब] १ खट्टी वस्तु। २ मट्टे से मन्तुन चीज (ज ३)।

अप वि [आम्र] नाल, रत्नवर्णवाला (मे ३, ३४)।

अवग देखो अव = आम्र (अणु) °द्विया स्त्री [°स्थि] आम की गुठली (अणु)।

अवट्ट पु [अम्बट्ट] १ देश-विशेष (पउम ६८, ६५)। २ जिसका पिता ब्राह्मण और माता वैश्य हो वह (सूत्र १, ६)।

अवड पु [अम्बड] १ एक परिव्राजक, जो महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा (औप)। २ भगवान् महावीर का एक श्रावक, जो आगामी चौबीसी में २२ वां तीर्थंकर होगा (ठा ६)।

अवड वि [दे] कठिन (दे १, १६)।

अवघाई स्त्री [अम्बघात्रा] घाई माता (सुपा २६८)।

अवमसी स्त्री [दे] कठिन और वासी कनिक (दे १, ३७)।

अवय देखो अव (सुपा ३३४)।

अवर पुन [अम्बर] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४)।

अवर न [अम्बर] १ आकाश (पात्र, भग २, २)। २ वस्त्र, कपड़ा (पात्र, निचू १)।

°तिलय पु [°तिलक] पर्वत-विशेष (श्राव)।

°वत्थ न [°वत्थ] स्वच्छ वस्त्र (कम्प)।

अवरस पुन [अम्बरस] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७५)।

अवरिस पुन [अम्बरीप] १ भट्टी, भाड (भग ३, ६)। २ कोष्ठक (जीव)। ३ पु नारक-जीवों को दुख देनेवाले एक प्रकार के परमाधार्मिक देव (पव १८०)।

अवरिसि पु [अम्बवृष्टि] १ ऊपर का तीसरा अर्थ देखो (सम २८)। २ उज्जयिनी नगरी का निवासी एक ब्राह्मण (श्राव)।

अवरीस देखो अवरिस।

अवरीसि देखो अवरिसि।

अवसमिआ } देखो अवमसी।
अवसमी }

अवहुड। स्त्री [अम्बहुण्डी] एक देवी (महानि २)।

अवा स्त्री [अम्वा] १ माता, मा (स्वप्न २२४)। २ भगवान् नेमिनाथ की शासनदेवी (सति १०)। ३ बल्लो-विशेष (परण १)।

अवाड सक [खरण्ट] खरडना, लेप करना, 'चमटंति खरण्टंति अवाडंति ति वुत्त भवति' (निचू ४)।

अवाड सक [तिरस् + कृ] उपालभ देना, तिरस्कार करना, 'तयो हक्कारिय अवाडिआ भणिआ य' (महा)।

अवाडग } पु [आम्रातक] १ आमला का अवाडग } (परण १, पउम ४२, ६)। २ न आमला का फल (अनु ६)।

अवाडि-वि [तिरस्कृत] १ तिरस्कृत (महा)। २ उपालब्ध (स ५१२)।

अविआ स्त्री [अम्बिका] १ भगवान् नेमिनाथ की शासनदेवी (ती १०)। २ पाचवे वासुदेव की माता (पउम २०, १८४)। ३ समय पुं [°समय] गिरनार पर्वत पर का एक तीर्थ स्थान (ती ४)।

अविर न [आम्र] आम का फल (दे १, १५)।

अविल पु [आम्ब] १ खट्टा रस (सम ४१)। २ वि खटाई वाली चीज, खट्टी वस्तु (श्रोघ ३४०)। ३ नामकर्म-विशेष (कम्म १, ४१)।

अविलिया स्त्री [अम्बिका] १ इमली का पेड़ (उप १०३१ टी)। २ इमली का फल (श्रा २०)।

अंबु न [अम्बु] पानी, जल (पात्र)। १ अ, °ज न [°ज] कमल, पद्म (अचु ५५, कुमा)। २ °णाह पु [°नाथ] समुद्र (वव ६)। ३ °रुह न [°रुह] कमल (पात्र)। ४ °वह पु [°वह] मेघ, वारिस (गडड)। ५ °वाह पु [°वाह] मेघ, वारिस (गडड)।

अबुपिसाअ पु [दे] राहु (गा ८०४)।

अबुसु पु [दे] श्रापद जन्तु विशेष, हिंसक पशु-विशेष, शरभ (दे १, ११)।

अवेद्विआ } स्त्री [दे] एक प्रकार का जूआ, अवेद्वी } मुष्टि-यूत (दे १, ७)।

अवेसि पु [दे] द्वार-फलक, दरवाजे का तख्ता (दे १, ८)।

अवोच्चो स्त्री [दे] फूलों को बिननेवाली स्त्री (दे १, ६, नाट)।

अम पु [अम्भस्] पानी, जल (श्रा १२)।

अमु (अप) पु [अश्मन्] पत्थर, पाषाण (पड)।

अभो पुं [अम्भस्] पानी, जल। १ अ न [°ज] कमल (दे ७, ३८)। २ इणी स्त्री [°जिनी] कमलिनी, पद्मिनी (मे ६१)। ३ निधि पु [°निधि] समुद्र (श्रा १२)।

°रुह न [°रुह] कमल, पद्म, 'कुभरोहसर-जलनिहियो, दिव्वनिमारयरागणसिहियो' (उप ६ टी) ।

अंभोहि पु [अंभोधि] समुद्र (कुप्र २७१) ।

अस पुं [अंरा] १ भाग, अवयव, खड, टुकडा (पाप्र) । २ मेद, विकल्प (विसे) । ३ पर्याय, धर्म, गुरा (विने) ।

अस पु [अश] विद्यमान कर्म, सत्ता-स्थित कर्म, 'अस' इति सतकम्म भन्नई' (कम्म ६, ६) ।

°हर वि [°धर] भागीदार (उत्त १३, २२) ।

अंस } पु [अस] कान्ध, कथा (गाया असल्ल) १, १८, तडु) ।

अंसि देखो अस = अस ।

असि स्त्री [अश्रि] १ कोण, कोना (उप ४ ६८) । २ वार, नोक (ठा ८) ।

असिया स्त्री [अशिका] भाग, हिस्सा (बृह ३) ।

असिया स्त्री [अशिका] १ ववासीर का रोग (भग १६, ३) । २ नासिका का एक रोग (निचू ३) । ३ फुन्सी, फोडा (निचू ३) ।

असु पुं [अशु] किरण (लहुअ ६) । °माळि पु [°माळिन्] सूर्य, सूरज (रयण १) ।

असु देखो असुय = अशुक (पच ३, ४०) ।

असु पुं [अशु] किरण । °मत, °वत्त वि [°मत्] १ किरणवाला । २ पु सूर्य (प्राक ३५) ।

अंसु न [अश्रु] आसू, नेत्र-जल । °मत, °वत्त वि [°मत्] अश्रुवाला (प्राक ३५) ।

असु } न [अश्रु] आसू, नेत्र-जल (हे १, असुय } २६, कुमा) ।

असुय न [अशुक] १ वस्त्र, कपडा (से ६, ८२) । २ वारीक वस्त्र (बृह २) । ३ पोशाक, वेश (कप्प) ।

असोत्थ देखो असोत्थ (पि ७४, १५२, ३०६) ।

अह पुन [अहस्] मल, 'भज्य व वाहिभो सो निरहसा तेण जलपवाहेण' (धर्मवि १४६) ।

अहि पु [अहि] पाद, पांव (कप्प) ।

अकइ वि [अकति] असख्यात, अनन्त (ठा ३) ।

अकंड देखो अयंड (गा ६६५) ।

अकडतल्लि वि [दे] १ स्नेह रहित । जिसने शादी न की हो वह (दे १, ६०) ।

अकपण वि [अकम्पन] १ कप रहित । २ पु रावण का एक पुत्र (से १४, ७०) ।

अकपिय वि [अकम्पित] १ कम्परहित २ पु भगवान् महावीर का आठवाँ गणधर (सम १६) ।

अकज्ज देखो अकय = अकृत्य (उव) ।

अकणण } वि [अकर्ण] १ कर्ण रहित ।

अकज्ज } २-३ पु स्वनामख्यात एक अर्द्धपि और उससे रहनेवाला (ठा ४, २) ।

अकप्प पु [अकल्प] अयोग्य आचार, शास्त्रोक्त विधि-मर्यादा से बाहर का आचरण (कप्प) ।

अकप्प वि [अकल्प्य] अनाचरणीय, शास्त्र-निषिद्ध आहार-वस्त्र आदि अग्राह्य वस्तु (वव १) ।

अकप्पिय पु [अकल्पिक] जिसको शास्त्र का पूरा-पूरा ज्ञान न हो ऐसा जैन साधु (वव १) ।

अकप्पिय देखो अकप्प = अकल्प्य (वस ५) ।

अकम वि [अकम] १ कम रहित । २ क्लिबि एक साथ (कुमा) ।

अकम्म } न [अकम्मन्, °क] १ कर्म अकम्मग } का अभाव (बृह १) । २ पु मुक्त, सिद्ध जीव (आचा) । ३ कृषि आदि कर्म रहित (देश, भूमि वगैरह) (जी २४) ।

°भूमग, °भूमय वि [°भूमक] अकर्म-भूमि में उत्पन्न होने वाला (जीव १) । °भूमि, °भूमी स्त्री [°भूमि, भूमी] जिस भूमि में कल्प वृक्षों से ही आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होने से कृषि वगैरह कर्म करने की आवश्यकता नहीं है वह, भोग-भूमि (ठा ३, ४) ।

°भूमिय वि [°भूमिज] अकर्म-भूमि में उत्पन्न (ठा ३, १) ।

अकम्हा अ [अकस्मात्] अचानक, निष्कारण (सुपा ५६६) ।

अकय वि [अकृत] नहीं किया हुआ (कुमा) ।

°मुह वि [°मुख] अपठित, अशिक्षित (बृह ३) । °रथ वि [°रथ] असफल (नाट) ।

अकय वि [अकृत्य] १—२ करने के अयोग्य या अशक्य । ३ न अनुचित काम । °कारि

वि [°कारिन्] अकृत्य को करनेवाला (पजम ८०, ७१) ।

अकय्य (मा) ऊपर देखो (नाट) ।

अकरण न [अकरण] १ नहीं करना (वस) २ मैथुन, 'जइ सेवति अकरण पचएहि वाहिरा हृति' (वव ३) ।

अकइय वि [अकायिक] १ शारीरिक चेष्टा से रहित । २ पु मुक्तात्मा (भग ८, २) ।

अकाम पु [अकाम] १ अनिच्छा (सुप्र २, ६) । २ वि इच्छारहित, निष्काम (सुपा २०६) । °पिज्जरा स्त्री [°निर्जरा] कर्म-नाश की अनिच्छा से बुभुक्षा आदि कर्णों को सहन करना (ठा ४, ४) ।

अकामग } [अकामक] ऊपर देखो । अकामय } ३ अवाञ्छनीय, इच्छा बल के अयोग्य (पएह १, १, राया १, १) ।

अकामिय वि [अकामिक] निराश (विपा १, १) ।

अकय वि [अकाय] १ शरीररहित । २ पु मुक्तात्मा (ठा २, ३) ।

अकार पु [अकार] 'अ' अक्षर, प्रथम स्वर वरुण (विसे ४६५) ।

अकारग पु [अकारक] १ अक्षि, भोजन की अनिच्छा रूप रोग (राया १, १३) । २ वि अकर्ता (सुप्र १, १) । °वाइ वि [°वादिन्] आत्मा को निष्क्रिय माननेवाला (सुप्र १, १) ।

अकासि अ [दे] निषेध-सूचक अव्यय, अणम् 'अकासि लजाए' (दे १, ८) ।

अकिंचण वि [अकिञ्चन] १ साधु, मुनि, भिक्षुक (पएह २, ५) । २ गरीब, निर्बल, दरिद्र (पाप्र) ।

अकिट्ट वि [अकृष्ट] नहीं जोती हुई जगत् 'अकिट्टजाय-' (पजम ३३, १४) ।

अकिट्ट वि [अक्लिष्ट] १ क्लेशरहित, बाधा रहित, 'पेच्छामि तुज्ज कत,

सगामे वडवणसु दिवहेट्टु ।

मह नाहेण विण्हय,

रामेण अकिट्टयमेण' (पन ५३, ५२) ।

अक्रिय वि [अक्रिय] १ आलसी, निरुद्यम ।
 २ अयुध व्यापार से रहित (ठा ७) । ३
 परलोक विषयक क्रिया को नहीं माननेवाला,
 नास्तिक (एदि) । १य वि [°त्मन्] आत्मा
 को निष्क्रिय माननेवाला, साध्य (सूत्र १,
 १०) ।
 अक्रिया स्त्री [अक्रिया] १ क्रिया का
 अभाव (भग २६, २) । २ दुष्ट क्रिया, खराब
 व्यापार (ठा ३, ३) । ३ नास्तिकता (ठा ८) ।
 ४ वाइ वि [°वादिन्] परलोक-विषयक क्रिया
 को नहीं माननेवाला, नास्तिक (ठा ४, ४) ।
 अक्रिय देखो अक्रिय, 'जे केइ लोगम्मि
 अकीरियाया, अन्नेए पुट्ठा पुयमादिसति' (सूत्र
 १, १०) ।
 अकुइया स्त्री [अकुचिका] देखो अकुय ।
 अकुओभय वि [अकुतोभय] जिसको किसी
 तरफ से भय न हो वह, निर्भय (आचा) ।
 अकुठ वि [अकुण्ठ] अपने कार्य में निपुण
 (गठ) ।
 अकुय वि [अकुच] निश्चल, स्थिर (निच् १) ।
 स्त्री अकुइया (कप्प) ।
 अकोप वि [अकोप्य] रम्य, सुन्दर (परह
 १, ४) ।
 अकोप पु [दे] अपराध, गुनाह (पड् १) ।
 अकोस देखो अकोस = अकोश ।
 अकोसायत वि [अकोशायमान] विकसता
 हूय, 'रविकिरणतएणवीहियअकोसायतयउम-
 गमोवियएणो' (ओप) ।
 अक पु [अक] १ सूर्य, सूरज (सुर १०,
 २२३) । २ शक का पेड़ (प्रासु १६८) । ३
 गुणों, मीना, 'जेण अन्नुअसरिसो विहिओ
 एणममजोगो' (रमण ५४) । रावण का
 एक मुग्ध (पउम ५६, २) । ४ तूल न [°तूल]
 शक की हड्डी (परण १) । ५ तेअ पु [°तजस्]
 मियावर वरा का एक राणा (पउम ५, ४६) ।
 ६ वादीया स्त्री [°घोन्डिका] बह्वी-विशेष
 (परण १) ।
 अक पु [दे] दूत, मदेशा हारक (दे १, ६) ।
 ७ अक दग चक्र (गा ५३०, मे १, ५) ।
 अकअ वि [अकअ] नहीं किया गया । १ पुञ्च
 नि [°पूत्रे] को पहले बन्नी न किया गया हो
 (से १२, ४०) ।

अकड देखो अकंड (आड ५३) ।
 अकत वि [आकान्त] १ बलवान् के द्वारा
 दबाया हुआ (राया १, ८) । २ घेरा हुआ,
 ग्रस्त (आचा) । ३ परास्त, अभिमूत (सूत्र १,
 १, ४) । ४ एक जाति का निर्जीव वायु (ठा
 ५, ३) । ५ न आक्रमण, उल्लघन (भग १,
 ३) । ६ दुक्ख वि [°दुख] दुख से दबा
 हुआ (सूत्र १, १, ४) ।
 अकत वि [दे] बढा हुआ, प्रवृद्ध (दे १, ६) ।
 अकत वि [आकान्त] अनिष्ट, अनभिलषित,
 अनभिमत (सूत्र १, १, ४, ६) ।
 अकद अक [आ + क्रन्द] रोना, चिल्लाना
 (प्राणा) । वक्क अकदत (सुपा ५७४) ।
 अकद (अप) देखो अकम = आ + क्रम् ।
 अकदइ, सक्क अकदिऊण (सरण) ।
 अकद पु [आक्रन्द] रोदन, विलाप, चिल्ला-
 कर रोना (सुर २, ११४) ।
 अकद वि [दे] ब्राण करनेवाला, रक्षक (दे
 १, १५) ।
 अकदावणय वि [आक्रन्दक] हलानेवाला
 (कुमा) ।
 अकदिय न [आक्रन्दित] विलाप, रोदन (से
 ४, ६४; पउम ११०, ५) ।
 अकम सक [आ + क्रम्] १ आक्रमण करना,
 दबाना । २ परास्त करना । वक्क अकमत
 (पि ४८१) । सक्क अकमित्ता (परह १, १) ।
 अकम पु [आक्रम] १ दबाना, चढाई करना ।
 २ पराभव (आच) ।
 अकमण न [आक्रमण] १—२ ऊपर देखो
 (से १४, ६६) । ३ पराक्रम (जिसे १०४६) ।
 ४ वि आक्रमण करनेवाला (से ६, १) ।
 अकमिअ देखो अकत = आक्रान्त (काप्र १७२,
 सुपा १२७) ।
 अकसाला स्त्री [दे] १ बलात्कार, जबरदस्ती ।
 २ उन्मत्त-स्त्री स्त्री (दे १, ५८) ।
 अका स्त्री [दे] बहिन (दे १, ६) ।
 अका स्त्री [अका] कुड़नी, हूती (कुप्र १०) ।
 अकासी स्त्री [अकासी] व्यन्तर-जातीय एक
 देवी (ती ६) ।
 अकजिज वि [अक्रिय] खरोदने के अयोग्य (ठा
 ६) ।

अकिट्ट वि [अकित्ट] १ क्लेश-वर्जित (जीव
 ३) । २ बाधारहित (भग ३, २) ।
 अकिट्ट वि [अकृष्ट] अविलिखित (भग ३, २) ।
 अक्रिय वि [अक्रिय] क्रियारहित (जिसे
 २२०६) ।
 अकुट्ट वि [दे] अध्यासित, अधिष्ठित (दे १,
 ११) ।
 अक्कुस सक [राम्] जाना । अक्कुसइ (हे
 ४, १६२) ।
 अक्कुहय वि [अकुहक] निष्कपट, मायारहित
 (दस ६, २) ।
 अक्कूर पु [अक्कूर] श्रीकृष्ण के चाचा का
 नाम (रुक्मि ४६) ।
 अक्कूर वि [अक्कूर] क्रूरतारहित, दयालु (पव
 २३६) ।
 अक्केज्ज देखो अक्किज्ज ।
 अक्केहय वि [एकाकिन्] अक्केला, एकाकी
 (नाट) ।
 अक्कोड पु [दे] छाग, बकरा (दे १, १२) ।
 अक्कोडण न [आक्कोडन] इकट्ठा करना, सग्रह
 करना (विसे) ।
 अक्कोस न [अक्कोश] जिस ग्राम के अति नज-
 दिक में अटवी, क्षापद या पर्वतीय नदी आदि
 का उपद्रव हो वह ।
 'खेत चलमचल वा, इदमएिद सकोसमकोस ।
 वाधातम्मि अकोस, अडवीजले सावए तेणे'
 (बृह ३) ।
 अक्कोस सक [आ + क्रुश्] आक्कोश करना ।
 वक्क अक्कोसित (सुर १२, ४०) ।
 अक्कोस पु [आक्कोश] कटु वचन, शाप,
 भर्त्सना (सम ४०) ।
 अक्कोसग वि [आक्कोशक] आक्कोश करनेवाला
 (उत्त २) ।
 अक्कोसणा स्त्री [आक्कोशाना] अभिशप, निर्भ-
 र्तसना (राया १, १६) ।
 अक्कोसिअ वि [आक्कोशित] कटु वचनो से
 जिसकी भर्त्सना की गई हो वह (सुर ६,
 २३४) ।
 अक्कोह वि [अक्कोध] १ अल्प-क्रोधो (ज २) ।
 २ क्रोधरहित (उत्त २) ।
 अक्ख पु [अक्ष] १ जीव, आत्मा (ठा १) ।
 २ रावण का एक पुत्र (से १४, ६५) । ३

चन्दनक, समुद्र मे होनेवाला एक द्विन्द्रिय जन्तु, जिसके निर्जीव शरीर को जैन साधु लोग स्थापनाचार्य मे रखते हैं (आ १)। ४ पहिया की धुरी, कील (ग्रोध ५४६)। ५ चौसर का पासा (धण ३२)। ६ विभीतक, बहेडा का वृक्ष (से ६, ४४)। ७ चार हाथ या ६६ अणुलो का एक मान (अणु-सम)। ८ रुद्राक्ष (अणु ३)। ९ न. इन्द्रिय (विसे ११, धण ३२)। १० द्यूत, जूआ (से ६, ४४)। ११ चम्म न [चम्म] पखाल, मसक, 'अकखचम्म उट्टगडदेस' (णया १, ६)। १२ पाडय न [पादक] कील का टुकडा, 'राइणा हाहारवं करेमाणेण पहयो सो सुणओ अकखपाडएणति' (स २५५)। १३ माला स्त्री [माला] जपमाला (पउम ६६, ३१)। १४ लया स्त्री [लता] रुद्राक्ष की माला (दे)। १५ वत्त न [पात्र] पूजा का पाल, 'तो लोओ। गहियकखवत्तहत्थो एइ गिहे

वड्ढावरणत्थ' (सुपा ५८५)। १६ वलय न [वलय] रुद्राक्ष की माला (दे २, ८१)। १७ वाअ पु [पाद] नैयायिक मत के प्रवर्तक गौतम ऋषि (विसे १५०८)। १८ वाडग पु [वाटक] अखाडा (जीव ३)। १९ सुत्तमाला स्त्री [सूत्रमाला] जपमाला (अणु ३)।

अकख देखो अकखा = आ + ख्या। अकखइ (सण)।

अकखइय वि [आख्यात] उक्त, कथित (सण)।

अकखउहिणी देखो अकखोहिणी (प्राक ३०)। अकखड वि [अखण्ड] १ सपूर्ण। २ अखण्डित। ३ निरन्तर, अविच्छिन्न, 'अकख-एडपयायेहि रहवीरपुरे गओ कुमरो' (सुपा २६६)।

अकखडल पु [अखण्डल] इन्द्र (पात्र)। अकखण्डिअ वि [अखण्डित] १ सपूर्ण, खण्ड रहित (से ३, १२)। २ अविच्छिन्न, निरन्तर (उर ८, १०)।

अकखत देखो अकखा = आ + ख्या। अकखड सक [आ + रुकुन्द] आक्रमण करना, 'अकखडड पिया हिमए, अएण मट्टिलाअण रमतस्स' (गा ४४)। अकखणवेत्त न [दे] १ मैथुन, सभोग।

२ शाम, सध्या काल (दे १, ५६)। अकखणिआ स्त्री [दे] विपरीत मैथुन (पात्र)।

अकखम वि [अक्षम] १ असमर्थ (सुपा-३७०)। २ अयुक्त, अयुचित (ठा ३, ३)।

अकखय वि [अक्षत] १ धावरहित, ब्रण शून्य (सुर २, ३३)। २ अखण्डित, सपूर्ण (सुर ६, १११)। ३ पु ब अखण्ड चावल (सुपा ३२६)।

अकखर वि [अक्षर] निर्दोष आचरणवाला (वव ३)।

अकखथ वि [अक्षय] १ क्षय का अभाव (उवर ८३)। २ जिसका कभी नाश न हो वह (सम १)।

अकखि पुन [अक्षि] एक प्रकार की तपश्चर्या (पव २७१)। २ तइया स्त्री [अक्षि] वैशाख शुक्ल तृतीया (आनि)।

अकखर पुन [अक्षर] १ अक्षर, वर्ण (सुपा ६५६)। २ ज्ञान, चेतना, 'नकखरइ अणुव-ओणेवि, अकखर, सो य चेयणामावो' (विसे ४५५)। ३ वि अविनश्वर, नित्य (विसे ४५७)। ४ थ पु [अर्थ] शब्दार्थ (अभि १५१)। ५ पुट्टिया स्त्री [अक्षि] लिपि-विशेष (सम ३५)। समास पु [असमास] १ अक्षरों का समूह। २ श्रुत-ज्ञान का एक भेद (कम्म १, ७)।

अकखल पु [दे] १ अखरोट वृक्ष। २ न अखरोट वृक्ष का फल (परण १६)।

अकखलिय वि [दे] १ जिसका प्रतिशब्द हुआ हो वह, प्रतिव्यनित (दे १, २७)। २ आकुल, व्याकुल (सुर ४, ८८)।

अकखलिय वि [अखलित] १ अवाधित, निरुपद्रव (कुमा)। २ जो गिरा न हो वह, अपतित (नाट)।

अकखवाया स्त्री [दे] दिशा (दे १, ३५)। अकखा सक [आ + ख्या] कहना, बोलना। वक्त अकखत (सण, धर्म ३)। कवक अकखज्जत (सुर ११, १६२)। क अकखेअ, अकखाइयञ्च (विसे २६४७, गा २४२)। हेक अकखाउ (वस ८, सत्त ३ टी)।

अकखा स्त्री [आख्या] नाम (विसे १६११)।

अकखाइ वि [आख्यायिन्] कहनेवाला, उपदेशक, 'अधम्मकखाइ' (णया १, १०, विपा १, १)।

अकखाय न [आख्यातिक] क्रियापद, क्रिया वाचक शब्द (विसे)।

अकखाइय वि [अक्षितिक] स्थायी, अनश्व, शाश्वत, 'एव ते अलियवयणएडकखा परतोसुपाए रापसत्ता वेदति अकखाइयवीएण अयाए कम्मववणेण' (परह १, २)।

अकखाइया स्त्री [आख्यायिका] उपन्यास, वार्ता, कहानी (कप्पू, भास ५०)।

अकखाउ वि [आख्याउ] कहनेवाला (सम १, १, ३, १३)।

अकखाग पु [आख्याग] म्लेच्छों की एक जाति (सूय १, ५)।

अकखाडग पु [अक्षवाटक] १ बूगा अकखाडय खेलने का बड़ा। २ अखडा, व्यायाम-स्थान (उप पु १३०)। ३ अखडों को बैठने का आसन (ठा ४, २)।

अकखाण न [आख्यान] १ कथन, निवेदन (कुमा)। २ वार्ता, उपकथा (पउम ५८, ७७)।

अकखाणय न [आख्यानक] कहानी, वार्ता (उप ५६७ टी)।

अकखाय वि [आख्यात] १ प्रतिपादित, कथित (सुपा ३६५)। २ न क्रियापद (परह २, २)।

अकखाय न [अखात] हाथी को फकडन के लिए किया जाता गडा, लड्डा (पात्र)।

अकखाया स्त्री [आख्याता] एक प्रकार का जैन दीक्षा, 'अकखायाए सुदसणो सेट्ठी सामिण पडिवोहिओ' (पत्र)।

अकखि वि [अक्षि] आक्ष, नेत्र (हे १, ११, ३५, स २, १०४, प्राप्र, स्वप्न ६१)।

अकखिअ वि [आक्षिक] पासा से डूब खेलनेवाला, जुआड़ी (दे ७, ८)।

अकखिअ वि [आख्यात] प्रतिपादित, कथित (था १४)।

अकखितर न [अक्षयन्तर] आक्ष का को- (विपा १, १)।

अक्रियजत देखो अकखा = आ + ख्या ।

अक्रियत्त वि [आक्षिप्त] सब तरह से प्रेरित (सिरि ३६६) ।

अक्रियत्त वि [आक्षिप्त] १ व्याकुल । २ जिम पर टीका की गई हो वह । ३ आक्रुष्ट, खीचा हुआ (सुर ३, ११५) । ४ सामर्थ्य से लिया हुआ (सि ४, ३१) ।

अक्रियत्त न [अक्षेत्र] मर्यादित क्षेत्र के बाहर का प्रदेश (निवृ १) ।

अक्रियम सक [आ + क्षिप्] १ आक्षेप करना, टीका करना, दोषारोप करना । २ रोकना । ३ गंवाना । ४ व्याकुल करना । ५ फेंकना । ६ स्वीकार करना, 'अक्रियवइ पुरि-सगार' (उवर ४६) । हेठ अक्रियविड (निर १, १), 'तत्रो न जुत्तमिह कालम अक्रियविड' (स २०५, पि ५७७) । कर्म 'अक्रियवइ य मे वाणी' (स २३, प्रामा) ।

अक्रियम सक [आ + क्षिप्] आक्रोश करना । अक्रियवति (सिरि ८३१) ।

अक्रियमण न [आक्षेपण] व्याकुलता, घबराहट (परह १, ३) ।

अन्प्रीण वि [अक्षीण] १ ह्रास शून्य, क्षय-रहित, अकूट (कप्प) । २ परिपूर्ण, सपूर्ण (हुमा) । 'महाणसिय वि [महानसिक] निमको निम्नोक्त अक्षीण महानसी शक्ति प्राप्त हुई हो वह (परह २, १) 'महाणसी स्त्री [महानसा] वह अद्भुत आत्मिक शक्ति जिसन बाडा भी भिन्नान दूसरे सैकडो लोगो का यावत्-तृति खिलाने पर भी तबतक कम न हो, जबतक भिन्नान लानेवाला स्वयं उसे न पाय (पव २७०) । 'महालय वि [महालय] निम्नसे घाटी जगह मे भी बहुत लोगो का म्नावण हा सके ऐसी अद्भुत आत्मिक शक्ति । पुन. (मन्द २) ।

अन्नुअ वि [अक्षत] अक्षीण, पुटि-शून्य, 'अन्नुपावारचन्तिता' (पडि) ।

अन्नुहिअ वि [अरुण्डित] सपूर्ण, अखण्ड, अरुणित 'अन्नुहिआ पक्कुडिओ जिक्क तोवि कवनकुडि-रगो' (सुपा ११६) ।

अन्नुणग नि [अनुणग] जो हटा हुआ न हो, अरुणित (वह १) ।

अक्खुद वि [अक्षुद्र] १ गभीर, अतुच्छ (द्व ५) । २ दयालु, करुण (पचा २) । ३ उदार (पचा ७) । ४ सूक्ष्म बुद्धिवाला (धम्म २) ।

अक्खुद न [अक्षौद्रय] क्षुद्रता का अभाव (उप ६१५) ।

अक्खुपुरी स्त्री [अक्षपुरी] नगरी-विशेष (राया २) ।

अक्खुभमाण वि [अक्षुभ्यमान] जो क्षोभ को प्राप्त न होता हो (उप पृ ६२) ।

अक्खुभिय देखो अक्खुहिय (एदि ४६) ।

अक्खुहिय वि [अक्षुभित] क्षोभरहित, अक्षुब्ध (सण) ।

अक्खूग सि [अक्षूण] अन्यून, परिपूर्ण, 'भोयएवत्थाहरण सपायतेण सव्वमक्खूण' (उप ७२८ टी) ।

अक्खेअ देखो अकखा = आ + ख्या ।

अक्खेव पु [अ + क्षेप] शीघ्रता, जल्दी (सुपा १२६) ।

अक्खेव पु [आक्षेप] १ आकर्षण, खीच कर लाना (परह १, ३) । २ सामर्थ्य, अर्थ की सगति के लिए अनुक्त अर्थ को बतलाना (उप १००२) । ३ आशका, पूर्वपक्ष (भग २, १, विसे १४३६) । ४ उत्पत्ति, 'दइवेण फलक्खेवे अइप्पसगो भवे पयडो' (उवर ४८) ।

अक्खेवग पु [आक्षेपक] १ खीचकर लाने-वाला, आकर्षक । २ समर्थक पद, अर्थसगति के लिए अनुक्त अर्थ को बतलानेवाला शब्द (उप ६६६) । ३ सान्निध्यकारक (उवर १८८) ।

अक्खेवणी स्त्री [आक्षेपणी] श्रोताओ के मन को आकर्षण करनेवाली कथा (औप) ।

अक्खेवि वि [आक्षेपिन्] आकर्षण करने-वाला, खीचकर लानेवाला (परह १, ३) ।

अक्खोड सक [कृप्] म्यान से तलवार को खीचना, वाहर करना । अक्खोडइ (हे ४, १८७) ।

अक्खोड सक [आ + स्फोटय्] थोडा या एक वार भटकना । अक्खोडिजा । वक्क अक्खोडत (दस ४) ।

अक्खोड पु [अक्षोट] १ अखरोट का पेड । २ न अखरोट वृक्ष का फल (परण १७, सण) । ३ राजकुल को दी जाती सुवर्ण आदि की भेट (वव १ टी) ।

अक्खोड पु [आस्फोट] प्रतिलेखन की क्रिया-विशेष (पव २) ।

अक्खोडिय वि [कृष्ट] खीचा हुआ, वाहर निकला हुआ (खड्ग) (कुमा) ।

अक्खोभ } पु [अक्षोभ] १ क्षोभ का अभाव, अक्खोह } अभाव, घबराहट का अभाव (राया १, ६) । २ यदुवश के राजा

अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर शत्रु जय पर मोक्ष गया था (अत १, ७) । ३ न 'अन्तकृदशा' सूत्र का एक अव्ययन (अत १, ७) । ४ वि क्षोभरहित, अचल, स्थिर (परह २, ५, कुमा) ।

अक्खोहणिज्ज वि [अक्षोभणीय] जो क्षुब्ध न किया जा सके (सुपा ११४) ।

अक्खोहिणी स्त्री [अक्षोहिणी] एक बडी सेना, जिसमे २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोडे और १०६३५० पैदल होते हैं (पजम ५५, ७, ११) ।

अखड वि [अखण्ड] परिपूर्ण, खण्डरहित (औप) ।

अखडल पु [आखण्डल] इन्द्र (पजम ४६, ४४) ।

अखडिय वि [अखण्डित] नही हटा हुआ, परिपूर्ण (पचा १८) ।

अखण वि [दे] स्वच्छ, निर्मल, 'आयव-त्ताइ । धारिन्ति, ठविति पुरो अखम्पण दम्पण केवि' (सुपा ७४) ।

अखज्ज वि [अखाद्य] जो खाने लायक न हो (राया १, १६) ।

अखत्त न [अक्षात्र] क्षत्रिय-धर्म के विरुद्ध, जुलुम, 'यपइ विजावलिओ, अहह अखत्त करेइ कोइ इमो' (धम्म ८ टी) ।

अखम देखो अक्खम (कुमा) ।

अखरय पु [दे] भृत्य-विशेष, एक प्रकार का दास (पिड ३६७) ।

अखलिअ देखो अक्खलिय = अस्खलित (कुमा) ।

अखादिम वि [अखाद्य] खाने के अयोग्य, अमक्ष्य, 'कुपहे वावति, अखादिम खादति' (कुमा) ।

अखाय वि [अखात] नही खुदा हुआ । °तल न [°तल] छोटा तलाव (पात्र) ।

अखिल वि [अखिल] १ सर्व, सकल, परिपूर्ण (कुमा) । २ ज्ञान आदि गुणों से पूर्ण, 'अखिले अगिद्धे अरिणपञ्चारी' (सूत्र १, ७) ।

अखुट्ट वि [दे] अखुट (भवि) ।

अंखुट्टिअ वि [अतुडित] अखुट, परिपूर्ण (कुमा) ।

अखुडिअ देखो अकखुडिअ (कुमा) ।

अंखेयण्ण वि [अखेदज्ञ] अकुरल, अनिपुण (सूत्र १, १०) ।

अखोड देखो अकखोड + फाल्फोट (पव २ टी) ।

अखोहा स्त्री [अक्षोभा] विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) ।

अग पु [अंग] १ वृक्ष, पेड़ । २ पर्वत, पहाड़ (से ६, ४१), 'उच्चागयटाणलदुसटिय' (कप्प) ।

अगइ स्त्री [अगति] १ नीच गति, नरक या पशु-भोगि में जन्म (ठा २, २) । २ निरुपाय (अधु ६६) ।

अगठिम न [अग्रन्थिम] १ कदली-फल, केला (वृह १) । २ फल की फाँक, टुकड़ा (निच्च १६) ।

अगडिगोह वि [दे] यौवनोन्मत्त, जवानी से उन्मत्त बना हुआ (दे १, ४०) ।

अगड्ढयग वि [अकण्डूयक] नही खुजलाने-वाला (सूत्र २, २) ।

अगथ वि [अग्रन्थ] १ धनरहित । २ पुस्त्री निर्ग्रन्थ, जैन साधु, 'पाव कम्म अकुव्वमारो एस मह अगथे विआहिए' (आचा) ।

अगधण पु [अगन्धन] इस नाम की सपों की एक जाति, 'नेच्छति वतय भोत्तुं कुले जाय । अगधणे' (दस २) ।

अगड पु [दे अवट] कूप, इनारा (सुर ११, ८६, उव) । °तड वि [°तट] इनारा का किनारा (विसे) । °दत्त पु [°दत्त] इस नाम का एक राजकुमार (उत्त) । ददुहुर पु [°ददुर] कुंए का मेढक, अल्पज्ञ, वह मनुष्य जो अपना घर छोड़ बाहर न गया हो (एगया १, ८) ।

अगड पु [अवट] कूप के पाम पशुओं के जल पीने के लिए जो गत बनाया जाता है वह (उप २०५) ।

अगड वि [अकृत] नही किया हुआ (वव ६) ।

अगणि पु [अग्नि] आग (जी ६) । °काय पु [°काय] अग्नि के जीव (भग ७, १०) । °मुह पु [°मुख] देव, देवता (आचू) ।

अगणिअ वि [अगणित] अवगणित, अपमानित (गा ४८४, पउम ११७, १४) ।

अगणिज्जत वि [अगण्यमान] जो गुणने में न आता हो, जिसकी आवृत्ति न की जाती हो, 'अगणिज्जतो नासे विजा' (प्रासु ६६) ।

अगस्थि } पु [अगस्ति, °क] १ इस नाम अगस्थिय } का एक ऋषि । २ वृक्ष-विशेष (दे ६, १३३, अनु) । ३ एक तारा, अठाली महाग्रहों में ५४ वाँ महाग्रह (ठा २, ३) ।

अगन्न वि [अगण्य] १ जिसकी गिनती न हो सके वह (उप ७२८ टी) ।

अगन्न वि [अकण्य] नही सुनने लायक, आश्रय (भवि) ।

अगम पु [अगम] १ वृक्ष, पेड़, 'दुमा य पायवा ख्वाका आ (१ अ) गमा विडिमा तल्ल' (दसनि १, ३५) । २ वि स्थावर, नही चलने वाला (महानि ४) ।

अगम न [अगम] आकाश, गगन (भग २० २) ।

अगमिय वि [अगमिक] वह शास्त्र, जिसमें एक सदृश पाठ न हो, या जिसमें गाथा वगैरह पद्य हो, 'गाहाइ अगमिय खलु कालियसुय' (विसे ४४६) ।

अगम्म वि [अगम्य] १ जाने के अयोग्य । २ स्त्री भोगने के अयोग्य, भगिनी, पर स्त्री आदि (भवि, सुर १२, ५२) । °गामि वि [°गामिन्] पर स्त्री को भोगनेवाला, पारदारिक (पएह १, २) ।

अगय न [अगद] औपव, दवाई (सुपा ४४७) ।

अगय पु [दे] दैत्य, दानव (दे १, ६) । अगर पुन [अगरु] सुगन्धि काष्ठ-विशेष (पएह २, ५) ।

अगरल वि [अगरल] सुविभक्त, स्पष्ट, 'अगरलाए अमम्मणाए भासाए भासेइ' (औप) ।

अगरु देखो अगर (कुमा) ।

अगरुअ वि [अगरुक] बड़ा नही, छोटा, लघु (गडड) ।

अगरुल्लु वि [अगरुल्लु] जो भारी भी न हो और हलका भी न हो वह, जैसे प्राकार, परमाणु वगैरह (विसे) । °णाम न [°नामन] कर्म-विशेष, जिससे जीवों का शरीर न आते न हलका होता है (कम्म १, ४७) ।

अगलदत्त पु [अगडदत्त] एक रथिक-पु (महा) ।

अगलय देखो अगर (औप) ।

अगहण पु [दे] कापालिक, एक ऐसे सभ्रा के लोग, जो माथे की खोपड़ी में ही खाने-पीने का काम करते हैं (दे १, ३१) ।

अगहिल वि [अग्रहिल] जो भूतादि से आदि न हो, अपगल (उप ५६७ टी) ।

°राय पु [°राज] एक राजा, जो वास्तव पागल न होने पर भी पागल-प्रजा के आश्रय बनावटी पागल बना था (ती २१) ।

अगाड वि [अगाध] अथाह, बहुत गह 'अगाडपरणेसु वि भाविअप्पा' (सूत्र १, १३) ।

अगामिय वि [अग्रामिक] ग्रामरहित, 'अ मियाए अडवीए' (औप) ।

अगार पु [अकार] 'अ' अक्षर (विसे ४८५) ।

अगार न [अगार] १ गृह, घर (सम ३५ २ पु गृहस्य, गृही, ससारी (दस १) । २ वि [°स्थ] गृही, (आचा) । °धम्म [°धर्म] गृहि-धर्म, श्रावक-धर्म (औप) ।

अगारग वि [अकारक] अकर्ता (सुयनि ३६) ।

अगारि वि [अगारिन्] गृहस्य, गृही (२, ६) ।

अगारी स्त्री [अगारिणी] गृहस्य स्त्री (४) ।

अगाल देजो अयाल (स ८२) ।

अगाह वि [अगाध] गहरा, गभीर (पा अगिणि देखो अगि (सधि १२) ।

अगिला स्त्री [अग्लानि] अखिलता, (ठा ५, १) ।

अगिला स्त्री [दे] अवज्ञा, तिरस्कार (१७) ।

अगीय वि [अगीत] शास्त्रों का पूं जिसको न हो वैसा (जैन साधु) (उप टी) ।

अगीयत्य वि [अगीतार्थ] अपर देखो (वच १) ।

अगुज्महर वि [दे] गुप्त वात को प्रकाशित करनेवाला (दे १, ४३) ।

अगुण देवो अउण (पि २६५) ।

अगुण वि [अगुण] १ गुणरहित, निर्गुण (गजड) । २ पु दोष, दूषण (दस ५) ।

अगुणासी देखो एगुणासी (पव २४) ।

अगुणि वि [अगुणिन्] गुण-वर्जित, निर्गुण (गजड) ।

अगुरु } वि [अगुरु] १ बड़ा नहीं सो, अगुरुअ } छोटा, लघु । २ पुन सुगन्धि काष्ठ विशेष, अगुरु चन्दन, 'धूवैरा कि अगुरुणो किमु ककरोण' (कप्पू, पउम २, ११) ।

अगुरुलहु } देखो अगुरुलहु (सम ५१, अगुरुलहुअ } ठा १०) ।

अगुरु देखो अगुरु, 'सखतिणिसागुलुचदराण' (निचू २) ।

अगा न [अगव] प्रकर्ष (उत्त २०, १५) ।

अगा पुन [दे] १ परिहास । २ वर्णन (सक्ति ४७) ।

अगा न [अग] १ आगे का भाग, अपर का भाग (कुमा) । २ पूर्वभाग, पहले का भाग (निचू १) । ३ परिमाण, 'अग ति वा परिमाण ति वा एण्डा' (आनु १) । ४ वि प्रधान, श्रेष्ठ (सुपा २४८) । ५ प्रथम, पहला (आव १) । 'करय पु [स्कन्ध] सैन्य का अग्र भाग (से ३, ४०) । 'गामिग वि [गामिक] अग्रगामो, आगे जानेवाला (स १४७) । 'ज दना य (दे ६, ४६) । 'जम्म [जन्मच] देमा य (उप ७२८ टी) । 'जाय [जात] देपो य (आवा) । 'जीहा स्त्री [जिहा] जैन का अग्र-भाग । 'णिय, 'णी वि [णी] पद्मा, मुनिवा, नायक (कप्प, नाट) । 'तावस पु [तापस] ऋषि-विशेष का नाम (सुज १०) । 'डे न [र्धे] पूर्वार्ध (निचू १) । 'धिह पु [धिह] एक प्रकार का भिक्षात्र (नला) । 'पहारि वि [प्रहारिन्] पहले राज नक्षत्रात् (आव १) । 'धीय वि [धीय] निम्न वीच पहले ही उत्पन्न हो राज ? या जिमकी वृद्धि में उसका अग्र-

भाग ही कारण होता है, जैसे ग्राम, कोरटक आदि वनस्पति (पणए १, ठा ४१) । 'मणि पु [मणि] मुख्य, श्रेष्ठ, शिरोमणि (उप ७२८ टी) । 'महिस्ती स्त्री [महिपी] पटरानी (सुपा ४६) । 'य वि [ज] १ आगे उत्पन्न होने वाला । २ पु ब्राह्मण । ३ बड़ा भाई । ४ स्त्री बड़ी बहन (नाट) । 'लोग पु [लोक] मुक्तिस्थान, सिद्धि-क्षेत्र (आ १२) । 'हृत्थ पु [हृत्त] १ हाथ का अग्र-भाग (उवा) । २ हाथ का अवलम्बन, सहारा (से ४, ३) । ३ अगुली (प्राप) ।

अग न [अग्र] १ प्रभूत, बहु । २ उपकार (आचानि २८५) । 'भाव न [भाव] धनिष्ठा-नक्षत्र का गोत्र (ज ७, पत्र ५००) । 'माहिस्ती देखो 'महिस्ती (उत्त १६, १) ।

अग वि [अग्र्य] १ श्रेष्ठ, उत्तम (से ८, ४४) । २ प्रधान, मुख्य (उत्त १४) ।

अगओ अ [अग्रतस्] सामने, आगे (कुमा) ।

अगंथ वि [अग्रन्थ] १ धनरहित । २ पु जैन साधु (श्रोप) ।

अगगखध पु [दे] रणभूमि का अग्रभाग (दे १, २७) ।

अगगल न [अर्गल] १ किवाड बन्द करने की लकड़ी, आगल (उम ५, २) । २ पु एक महा-ग्रह (सुज २०) । 'पासय पु [पाशक] जिसमें आगल दिया जाता है वह स्थान (आचा २, १, ५) । 'पासाय पु [पासाद] जहाँ आगल दिया जाता है वह घर (राय) ।

अगगल वि [दे] अघिक, 'वीसा एक्कगला' (पिग) ।

अगगला स्त्री [अर्गला] आगल, हुडका (पात्र) ।

अगगलिअ वि [अर्गलित्त] जो आगल से बन्द किया गया हो वह (सुर ६, १०) ।

अगगवेअ पु [दे] नदी का पूर (दे १, २६) ।

अगगह पु [आग्रह] आग्रह, हठ, अभिनिवेश (सुय १, १, ३; स ५१३) ।

अगगहण न [अग्रहण] १ अज्ञान (सुर १२, ४६) । २ नहीं लेना (से ११, ६८) ।

अगगहण न [दे] अग्रहण] अनादर, अवज्ञा (दे १, १७, से ११, ६८) ।

अगगहणिया स्त्री [दे] सीमतोलयन, गर्भाधान के बाद किया जाता एक संस्कार और उसके

उपलक्ष्य में मनाया जाता उत्सव, जिसको गुज-राती भापा में 'अग्रघणी' कहते हैं (सुपा २३) ।

अगगहि वि [आग्रहिन्] आग्रही, हठी (सुय १, १३) ।

अगगहिअ वि [दे] १ निर्मित, विरचित । २ स्वीकृत, कबूल किया हुआ (पड) ।

अगगणी वि [अग्रणी] मुख्य, प्रधान, नायक, 'दक्खिन्नदयाकलिओ अगगणी सयलवणिय-सत्थस्स' (सुर ६, १३८) ।

अगगारण न [उद्गारण] वमन, वान्ति (चार ७) ।

अगगाह वि [अगाध] अगाध, गभीर, 'खीरा-दहिणुव्व अगगाहा' (गुरु ४) ।

अगगाहार पु [अग्रधार] ग्राम-विशेष का नाम (सुपा ५४५) ।

अगगाहार पु [दे] अग्रहार] उच्च जीविका (सुल २, १३) ।

अग्नि पु [अग्नि] नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७) । 'मंत, 'वत वि [मन्] अग्निवाला (प्राक ३५) । 'हुत्त देखो 'होत्त (उत्त २५, १६, सुल २५, १६) ।

अग्नि पु स्त्री [अग्नि] १ आग, वहि (प्रासू २२) । 'एस पुण कावि अग्नी' (सट्ठि ६१) ।

२ कृत्तिका नक्षत्र का अधिष्ठातक देव (ठा २, ३) । ३ लोकान्तिक देव-विशेष (आवम) ।

'आरिआ स्त्री [कारिका] अग्नि-कर्म, होम (कप्पू) । 'उत्त पु [पुत्र] ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर का नाम (सम १५३) । 'कुमार पु [कुमार] भवनपति देवों की एक अवा-

न्तर जाति (पणए १) । 'कोण पु [कोण] पूर्वं और दक्षिण के बीच की दिशा (सुपा ६८) । 'जस पु [यशास] देव-विशेष (दीव) । 'ज्योय पु [द्योत] भगवान् महा-

वीर का पूर्वार्ध वीसवे ब्राह्मण-जन्म का नाम (आनु) । 'ट्ट वि [स्थ] आग में रखा हुआ (हे ४, ४२६) । 'ट्टोम पु [ट्टोम] यज्ञ विशेष (पि १०, १५६) । 'अभणी स्त्री [स्तम्भनी] आग की शक्ति को रोकनेवाली एक विद्या (पउम ७, १३६) । 'दत्त पु [दत्त] १ भगवान् पार्श्वनाथ के समकालीन ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर देव (तित्य) । २ ब्रह्मवाह

स्वामी का एक शिष्य (कप्प) । °दान पु [°दान] सातवें वासुदेव के पिता का नाम (पउम २०, १८२) । °देव पु [°देव] देव-विशेष (दीव) । °भूइ पु [°भूति] १ भगवान् महावीर का द्वितीय गणधर (कप्प) । २ भगवान् महावीर का पूर्विय अठारहवें ब्राह्मण-जन्म का नाम (आचू) । °माणव पु [°माणव] अग्निकुमार देवो का उत्तर-दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । °माली स्त्री [°माली] एक इन्द्राणी (दीव) । °वेश पु [°वेश] १ इस नाम का एक प्रसिद्ध ऋषि (एदि) । २ न एक गोत्र (कप्प) । °वेश पु [°वेशन्] १ चतुर्दशी तिथि (ज) । २ दिवस का वाइसवां मुहूर्त (चद १०) । °वेसायण पु [°वेसायण] १ अग्निवेश ऋषि का पौत्र (एदि, स २२५) । २ अग्निवेश-गोल मे उत्पन्न (कप्प) । ३ गोशालक का एक दिक्चर (भग १५) । ४ दिन का वाइसवां मुहूर्त (सम ५१) । °सकार पु [°सकार] विधि-पूर्वक जलाना, दाह देना (आवम) । °सत्पभा स्त्री [°सत्पभा] भगवान् वासुपुत्र्य की दीक्षा समय की पालकी का नाम (सम) । °सम्म पु [°शर्मन्] एक प्रसिद्ध तपस्वी ब्राह्मण (आचा) । °सिह पु [°शिख] १ सातवें वासुदेव का पिता (सम १५२) । २ अग्निकुमार देवो का दक्षिण-दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । °सिह पु [°सिह] एक जैन मुनि (उप ५८६) । °सिहा-चारण पु [°शिखाचारण] अग्नि-शिखा मे निर्वाधतया गमन करने की शक्ति वाला साधु (पव ६८) । °सीह पु [°सिह] सातवें वासुदेव के पिता का नाम (ठा १) । °सेण पु [°पेण] ऐरवत क्षेत्र के तीसरे और वाईसवें तीर्थकर (तित्य, सम १५३) । °होत्त न [°होत्र] १ अन्याधान, होम (विसे १६४०) । २ पु ब्राह्मण (पउम ३५, ६) । °होत्तवाइ वि [°होत्रवादिन्] होम से ही स्वर्ग की प्राप्ति माननेवाला (सुस १, ७) । °होत्तिय वि [°होत्रिक] होम करनेवाला (सुपा ७०) ।

अग्निगअ पु [अग्निग] १ यमदग्नि नामक एक तापस (आचू) । २ भस्मक रोग, जिससे जो कुछ खाय वह तुरन्त ही हजम हो जाता है (विपा १, १, विसे २०४८) ।

अग्निगअ पु [दे] इन्द्रगोप, एक जातिका क्षुद्र कीट (दे १, ५३) । २ वि मन्द (दे १, ५३) । अग्निगआय पु [दे] इन्द्रगोप, क्षुद्र कीट-विशेष (षड) । अग्निगच्च वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्बन्धी । २ पु लोकान्तिक देवो की एक जाति (राया १, ८) । ३ न गोत्र-विशेष, जो गोतम गोत्र की शाखा है (ठा ७) । अग्निगच्चाभ न [आग्नेयाभ] देव-विमान विशेष (सम १४) । अग्निगज्जम् वि [अग्नाह] लेने के अयोग्य (पउम ३१, ५४) । अग्निगम वि [अग्निम] १ प्रथम पहला (कप्प) । २ श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य (सुपा १) । अग्निगयय पु [आग्नेयक] इस नाम का एक राजपुत्र (उप ६३७) । अग्निगल देखो अग्निगल = अग्निगल (सुज २०) । अग्निगलिय देखो अग्निगम (पचव २) । अग्निगल पु [अग्निगल] एक महाग्रह (ठा २, ३) । अग्निगल वि [अग्निम] अग्रवर्ती (सिरि ४०६) । अग्नीय देखो अगीय (उप ८४०) । अग्नीवय न [दे] घर का एक भाग (पउम १६, ६४) । अग्नुच्छ वि [दे] प्रमित, निश्चित (षड) । अग्ने अ [अग्ने] आगे, पहले (पिग) । °यण वि [तन्] आगे का, पहले का (आवम) । °सर वि [°सर] अगुमा, मुखिया, नायक (आ २८) । अग्नेई स्त्री [आग्नेयी] अग्निकोण, दक्षिण-पूर्व दिशा (घण १८) । अग्नेणिय न [अग्नायणीय] दूसरा पूर्व, बारहवें जैनगम का दूसरा महान् भाग (सम २६) । अग्नेणी देखो अग्नेई (आवम) । अग्नेणीय देखो अग्नेणिय (एदि) । अग्नेय वि [आग्नेय] अग्नि (कोण) सम्बन्धी (अणु २१५) । अग्नेय वि [आग्नेय] १ अग्नि-सम्बन्धी, अग्नि का (पउम १२, १२६, विसे १६६०) । २ न शस्त्र-विशेष (सुर ८, ४१) । ३ एक

गोत्र, जो वत्स गोत्र की शाखा है (ठा ७) । ४ अग्नि-कोण, दक्षिण-पूर्व दिशा (भवि) । अग्नेोदय न [अग्नेोदक] समुद्रीय वेला की वृद्धि और हानि (सम ७६) । अग्घ अक [राज्] विराजना, शोभना, चमकना । अग्घइ (हे ४, १००) । अग्घ सक [आ-घ्रा] सूंधना । सकृ अग्घे ऊण (सम्मत्ता १४२) । अग्घ सक [अह्] योग्य होना, लायक होना, 'कल ए अग्घइ' (राया १, ८) । अग्घ सक [अधे] १ अच्छी कीमत से बेचना । २ श्राद्ध करना, सम्मान करना 'पहिण्ण पुणो भणिय, तुम्हेहि सिद्धि' । कम्म नयरिम् । गतव्व सो साहइ, परिणय अग्घत्तए जल' (सुपा ५०१) । वक्क अग्घायमाण (राया १, १) । अग्घ पु [अर्घ] १ एक देव विमान (वेद १-२) । २ पूजा (राय १००) । अग्घ पु [अर्घ] १ मछली की एक जाति (वीव ३) । २ पूजा-सामग्री (राया १, १६) । ३ पूजा मे जलादि देना (कुमा) । ४ मूल्य, मोत, कीमत (निच्च २) । °वत्त न [°पात्र] पूजा का पात्र (गाउड) । अग्घ वि [अर्घ्य] १ पूजा मे दिया जला जलादि द्रव्य (कप्प) । २ कीमती, बहुमूल्य (प्राप) । अग्घव सक [पूर] पूति करना, पूरा करना । अग्घवइ (हे ४, ६६) । अग्घविय वि [पूर्ण] १ भरा हुआ, सपूर्ण । २ पूरा किया गया (सुपा १०६, कुमा) । अग्घाविय वि [अर्घित] पूजित, सज्ज, सम्मानित (से ११, १६, गउड) । अग्घा सक [आ + घ्रा] सूंधना । व्ह अग्घाअत्त, अग्घायमाण (सा ५६५, एण १, ८) । कवक्क अग्घाट्जमाण (पण्ण २८) । अग्घाइ वि [आग्नायिन्] सूंधनेवाला, 'चन मरपउमवाइण' । धारियवामे । सट्ठु इरिट' (काप्र २६४) । अग्घाइअ वि [आघ्रात] सूंधा हुआ (सा ६७) । अग्घाट्जमाण देवो अग्घा ।

अग्घाडर वि [आघ्राट्] सूघनेवाला । स्त्री
 १री (गा ८८६) ।
 अग्घाड सक [पूर] पूर्ति करना, पूरा
 करना । अग्घाडइ (हे ४, १६६) ।
 अग्घाड } पु [दे] वृक्ष-विशेष, अपामार्ग,
 अग्घाडवा } चिचडा, लटजीरा (दे १, ८,
 पएण १) ।
 अग्घाण वि [दे] तृप्त, सतुष्ट (दे १, १८) ।
 अग्घाय वि [आघ्रात्] सूघा हुआ (पात्र) ।
 अग्घायमाण देखो अग्घ = अघे ।
 अग्घायमाण देखो अग्घा ।
 अग्घिय वि [राजित] विराजित, शोभित
 (कुमा) ।
 अग्घिय वि [अर्धित] १ बहुमूल्य, कीमती,
 'अग्घिय नाम बहुमोल्ल' (निचू २) । २ पूजित
 (दे १, १०७, से २०२) ।
 अग्घोद्य न [अर्घोदक] पूजा का जल (अभि
 ११८) ।
 अघ न [अघ] १ पाप, कुकर्म (कुमा) । २ वि
 शोचनीय, शोक का हेतु, 'अघ वम्हणभाव'
 (प्रयो ८०) ।
 अघो देखो अहो (नाट) ।
 अचक्खु पुन [अचक्षुस्] १ आँख के सिवाय
 बाकी इन्द्रियाँ और मन (कम्म १, १०) । २
 आँख को छोड़ बाकी इन्द्रियाँ और मन से होने-
 वाला मामान्य ज्ञान (द १६) । ३ वि अघा,
 नेत्रहीन (कम्म ४) । ४ दसण न [दशेण]
 प्रांत को छोड़ बाकी इन्द्रियाँ और मनसे होने-
 वाला मामान्य ज्ञान (सम १५) । ५ दसणावरण
 न [दरानावरण] अचक्षुर्दर्शन को रोकने-
 वाला कर्म (ठा ६) । ६ फास पु [स्पर्श]
 प्रवचन, अघेरा (णया १, १४) ।
 अचक्खुस वि [अघाक्षुप] जो आँख से देखा
 न जा सके (पएह १, १) ।
 अचक्खुसम वि [अचक्षुप्य] जिसको देखने
 का मन न चाहता हो (वृह ३) ।
 अचर वि [अचर] पृथिव्यादि स्थिर पदार्थ,
 'पामर (सम) ।
 अचल वि [अचल] १ निश्चल, स्थिर
 (गाम) । २ पु यदुवरा के राजा अचलकवृष्णि
 १ पुत्र का नाम (अत ३) । एक बलदेव
 का नाम (पव २०६) । ४ पतंत, पहाड़ (गड

१२०) । ५ एक राजा, जिसने रामचन्द्र के
 छोटे भाई के साथ जैन दीक्षा ली थी (पउम
 ८५, ४) । ६ पुर न [पुर] ब्रह्म-द्वीप के पास
 का एक नगर (कप्प) । ७ प्प न [त्पम्]]
 हस्तप्रहेलिका को ८४ लाख से गुणने पर जो
 सख्या लब्ध हो वह, अन्तिम सख्या (इक) ।
 ८ भाय पु [भ्राट्] भगवान् महावीर का
 नववाँ गणघर (कप्प) ।
 अचल पु [अचल] छठवाँ रुद्र पुरुष (विचार
 ४७२) ।
 अचल न [दे] १ घर । २ घर का पिछला
 भाग । ३ वि कहा हुआ । ४ निष्ठुर, निर्दय ।
 ५ नीरस, सूखा (दे १, ५३) ।
 अचला स्त्री [अचला] पृथिवी । २ एक
 इन्द्राणी (णया २) ।
 अचित्त वि [अचिन्त] निश्चित, चिन्तारहित ।
 अचित्त वि [अचिन्त्य] अनिर्वचनीय, जिसकी
 चिन्ता भी न हो सके वह, अद्भुत (लहुअ ३) ।
 अचित्तणिज्ज } वि [अचिन्तनीय] ऊपर
 अचित्तणीअ } देखो (अभि २०३, महा) ।
 अचित्तिय वि [अचिन्तित] आकस्मिक,
 असभावित (महा) ।
 अचित्त वि [अचित्त] जीव-रहित, अचेतन,
 'चित्तमचित्त वा रोव सय अजिन्न गिएहेजा'
 (दम ४) ।
 अचियत् } वि [दे] १ अनिष्ट, अप्रीतिकर
 अचियत्त } (सूअ २, २, पएह २, ३) । २
 न अप्रीति, द्वेष (ओघ २६१) ।
 अचिरजुवइ देखो अइरजुवइ (दे १, १८ टी) ।
 अचिरा देखो अइरा (पउम ३७, ३७) ।
 अचिराभा स्त्री [अचिराभा] विजली, विद्युत्
 (पउम ४२, ३२) ।
 अचिरेण देखो अइरेण (प्राह) ।
 अचेयण वि [अचेतन] चैतन्यरहित, निर्जीव
 (पएह १, २) ।
 अचेल न [अचेल] १ वस्त्रों का अभाव । २
 अल्प-मूल्यक वस्त्र । ३ थोड़ा वस्त्र (सम
 ४०) । ४ वि वस्त्र-रहित, नम्र । ५ जीएँ
 वस्त्र वाला । ६ अल्प वस्त्र वाला । ७ कुत्सित
 वस्त्र वाला, मैला, 'तह थोव-जुअ-कुत्तियचेले-
 हिवि भएणए अचेलोत्ति' (विसे २६०१) ।
 ८ परिमह, ९ परीसह पु [परिषह, परीषह]

वस्त्र के अभाव से अथवा जीएँ, अल्प या
 कुत्सित वस्त्र होने से उसे अदीन भाव से सहन
 करना (सम ४०, भग ८, ८) ।

अचेलाग } वि [अचेलाक] १ वस्त्र-रहित,
 अचेलाय } नम्र । २ फटा-टूटा वस्त्र वाला । ३
 मलिन वस्त्र वाला । ४ अल्प वस्त्र वाला । ५
 निर्दोष वस्त्र वाला, ६ अनियत रूप से वस्त्र का
 उपभोग करनेवाला (ठा ९, ३),
 'परिसुद्धजिएण-कुच्छियथोवानिय-
 यत्तभोगभोगेहि' ।

मुणओ मुच्छारहिया, सतेहि अचेलाया हुति'
 (विसे २६६६) ।

अच्च सक [अर्च] पूजना, सत्कार करना ।
 अच्चेइ (अप) । अच्च (दे २, ३५ टी) । कवकू-
 अच्चिज्जत (सुपा ७८) । कू अच्चणिज्ज
 (णया १, १) ।

अच्च पु [अर्च्य] १ लव (काल-मान) का एक
 भेद (कप्प) । २ वि पूज्य, पूजनीय (हे १,
 १७७) ।

अच्चंग न [अत्यङ्ग] विलासिता के प्रधान
 अंग, भोग के मुख्य साधन, 'अच्चगाण च
 भोगओ माए' (पवा १) ।

अच्चत वि [अत्यन्त] हृद से ज्यादा, अत्यधिक,
 बहुत (सुर ३, २२) । २ धावर वि [स्थावर]
 अनादि-काल से स्थावर-जाति में रहा हुआ
 (आवम) । ३ दूसमा स्त्री [दुष्पमा] देखो
 दुस्समदुस्समा (पउम २०, ७२) ।

अच्चतिअ वि [आत्यन्तिक] १ अत्यन्त,
 अधिक, अतिशयित । २ जिसका नाश कभी
 न हो वह, शाश्वत (सूअ २, ६) ।

अच्चग वि [अर्चक] पूजक (चैत्य १२) ।

अच्चगल वि [अत्यर्गल] निरकुश, अनियंत्रित
 (मोह ८७) ।

अच्चण न [अर्चन] पूजा, सम्मान (सुर ३,
 १३, सत्त १२ टी) ।

अच्चणा स्त्री [अर्चना] पूजा (अचु ५७) ।

अच्चणिआ स्त्री [अर्चनिका] अर्चन, पूजा (राय
 १०८) ।

अच्चत्त वि [अत्यक्त] नहीं छोड़ा हुआ, अप-
 रित्यक्त (उप पृ १०७) ।

अच्चत्थ वि [अत्यर्थ] १ अतिशयित, बहुत

(परह १, १) । २ गभीर अर्थ वाला (राय) ।
 ३ क्रि. वि. ज्यादा, अत्यत (सुर १, ७) ।
 अञ्चभुय वि [अत्यद्भूत] बड़ा आश्चर्य-जनक (प्रासू ४२) ।
 अञ्चय पु [अत्यय] १ विपरीत आचरण (बृह ३) । विनाश, मरण (उव) ।
 अञ्चय वि [अर्चक] पूजक, 'अणचयाण च चिरतराण, जहारिह रक्खणवद्धणति' (विदे ७० टी) ।
 अञ्चर } न [आश्चर्य] विस्मय, चमत्कार
 अञ्चरिअ } (विक्र ६४: प्रवो १७, रभा, भवि,
 अञ्चरीअ } नाट) ।
 अञ्चहम वि [अत्यधम] अति नीच (कप्प) ।
 अञ्चा स्त्री [अर्चा] पूजा, सत्कार (गडड) ।
 अञ्चा स्त्री [अर्चा] १ शरीर, देह (सूत्र १, १३, १७, १, १५, १८, २, २, ६, ठा १, पत्र १६) ।
 २ लेश्या, चित्त-वृत्ति (सूत्र १, १३, १७, १, १५, १८) । ३ ऐश्वर्य (ठा ३, १-पत्र ११७) ।
 अञ्चासण पु [अत्यशन] पक्ष का बारहवा दिन, द्वादशी तिथि (सुज १०, १४) ।
 अञ्चासणया स्त्री [अत्यासनता] खूब बैठना, देर तक या बारंबार बैठना (ठा ६) ।
 अञ्चासणया स्त्री [अत्यशनता] खूब खाना (ठा ६) ।
 अञ्चासणण } न [अत्यासन] अति समीप
 अञ्चासन्न } खूब नजदीक (भग १, १, उवा) ।
 अञ्चासाइय } वि [अत्याशातित] अपमान-
 अञ्चासादिय } नित, हैरान किया गया (ठा १०, भग ३, २) ।
 अञ्चासाय सक [अत्या + शातय] अपमान करना, हैरान करना । वक्क अञ्चासाएमाण (ठा १०) । हेक्क अञ्चासाइत्तए (भग ३, २) ।
 अञ्चाहिअ } वि [अत्याहित] १ महा भीति,
 अञ्चाहिद } बड़ा भय । २ झूठा, असत्य (स्वप्न ४७) । ३ ऐसा जलमी कार्य, जिसमें प्राण-हानि की सम्भावना हो (अभि ३७) ।
 अञ्चि स्त्री [अर्चिस्] १ कान्ति, तेज (भग २, ५) । २ अग्नि की ज्वाला (परण १) । ३ किरण (राय) । ४ दीप की शिखा (उत्त ३) । ५ न लोकान्तिक देवों का एक विमान (सम १४) । °मालि पु [°मालिन्] १ सूर्य, रवि (सूत्र १, ६) । २ वि किरणों से शोभित (राय) । ३ न लोकान्तिक देवों

का एक विमान (सम १४) । °माली स्त्री [°माली] १ चन्द्र और सूर्य की तृतीय अग्र-महिषी का नाम (ठा ४, १) । २ 'जातासूत्र' के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के एक अध्ययन का नाम (राया २) । ३ शक्रेन्द्र की तृतीय अग्रमहिषी की राजधानी का नाम (ठा ४, २) । °मालिणी स्त्री [°मालिनी] चन्द्र और सूर्य की एक अग्र-महिषी का नाम (भग १०, ५, इक) ।
 अञ्चिअ वि [अर्चित] १ पूजित, सत्कृत (गा १५०) । २ न विमान-विशेष (जीव ३, पत्र १३७) ।
 अञ्चिअ देखो अचित्त (ओष २२, सुर १२, २७) ।
 अञ्चीकर सक [अर्ची + कृ] १ प्रशंसा करना । २ खुशामद करना । अञ्चीकरेइ । वक्क अञ्चीकरत (निचू ५) ।
 अञ्चीकरण न [अर्चीकरण] १ प्रशंसा । २ खुशामद, 'अञ्चीकरण ररणो, गुणवयण त समासओ बुविह । सतमसत च तहा, पच्चवखपरोक्खमेक्केक्क ।' (निचू ५) ।
 अञ्चुअ पु [अच्युत] १ विष्णु (अञ्चु ५) । २ बारहवा देवलोक (सम ३९) । ३ ग्यारहवा और बारहवा देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३) । ४ अच्युत-देवलोकवासी देव, 'त चैव आरण-च्युय श्रोहियणालोण पासति' (विसे ६६६) । °नाह पु [°नाथ] बारहवा देवलोक का इन्द्र (भवि) । °वइ पु [°पति] इन्द्र-विशेष (सुपा ६१) । °वडिसग न [°वतसक] विमान-विशेष का नाम (सम ४१) । °सग्ग पु [°स्वर्ग] बारहवा देवलोक (भवि) ।
 अञ्चुअ पुन [अच्युत] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३५) ।
 अञ्चुआ स्त्री [अच्युता] छठवें और सतरहवें तीर्थंकर की शासनदेवी (सति ६, १०) ।
 अञ्चुइंद पु [अच्युतेन्द्र] ग्यारहवा और बारहवा देवलोक का स्वामी, इन्द्र-विशेष (पउम ११७, ७) ।
 अञ्चुकड वि [अत्युत्कट] अत्यन्त उग्र (प्रावम) ।
 अञ्चुग्ग वि [अत्युग्र] ऊपर देखो (पव २२४) ।

अच्युच्च वि [अत्युच्च] खूब ऊंचा, विदे उन्नत (उप ६८६ टी) ।
 अच्युट्टिय वि [अत्युत्थित] अकार्य करने को तैयार (सूत्र १, १४) ।
 अच्युण्ह वि [अत्युष्ण] खूब गरम (ठा ५, ३) ।
 अच्युत्तम वि [अत्युत्तम] अति श्रेष्ठ (कप्प) ।
 अच्युदय न [अत्युदक] १ वही वर्षा (ओष ३०) । २ प्रभूत पानी (जीव ३) ।
 अच्युदार वि [अत्युदार] अत्यन्त उदार (स ६००) ।
 अच्युन्नय वि [अत्युन्नत] बहुत ऊंचा (कप्प) ।
 अच्युत्तमड वि [अत्युत्तम] अति प्रबल (भवि) ।
 अच्युवयार पुं [अत्युपकार] महान् उपकार (गा ५१४) ।
 अच्युवयार पु [अत्युपचार] विशेष सेवा सुश्रूषा (गा ५१४) ।
 अच्युत्तवाय वि [अत्युद्वात] अत्यन्त घना हुआ (बृह ३) ।
 अच्युसिण वि [अत्युष्ण] अधिक गरम (आवा २, १, ७) ।
 अच्ये अक [अति + इ] १ अतिक्रान्त होना, गुजरना । २ सक उल्लंघन करता । अच्ये (उत्त १३, ३१, सूत्र १, १५, न) ।
 अच्ये सक [अत्या + इ] त्याग करवाना । अच्येही (सूत्र १, २, ३, ७) ।
 अच्येअर न [आश्चर्य] आश्चर्य, विस्मय (विक्र १५) ।
 अच्य अक [आस्] बैठना । अच्यइ हि १, २१४) । वक्क अच्यत, अच्यमाण (सुर ७, १३, राया १, १) । क अच्य यच्च अच्येयच्च (पि ५७०, सुर १२ २२८) ।
 अच्य सक [आ + छिद्] १ कान, छेदना । २ लीचन । अच्ये (आवा १, १, ३) । सक अच्यत्तु (आवक २२५), अच्येत्तु (पिड ३६८) ।
 अच्य वि [अच्य] १ स्वच्छ, निम्न (कुमा) । २ पु म्फटिक रत्न (पव २७५) । ३ पु व आयं देश-विशेष (पव २७५) ।

राजा (पउम १२, २) । २ नन्दीश्वर द्वीप के अपराध का अघिष्ठाता देव (जीव ३, ४) ।
 °सह देखो °सह (राज) । °सेण पुं [°पेण]
 १ दशवां चक्रवर्ती राजा (सम ६८, १५२) ।
 २ भगवान् नमिनाथजी का प्रथम आवक
 (विचार ३७८) । °सह पु [°सह] १
 विद्युत्कुमार-देवो की दक्षिण दिशा का इन्द्र
 (ठा २, ३—पत्र ८४, इक) । माल्यवन्त
 पर्वत का एक शिखर (ठा ६—पत्र ४५४) ।

हरि पुं [हरित्] १ हरा रंग, वर्ण-विशेष ।
 २ वि. हरा रंगवाला (खाया १, १६ पत्र
 २२८) । ३ स्त्री. एक महा नदी (सम २७,
 इक, ठा २, ३—पत्र ७२) । ४ पड्डज ग्राम
 की एक मूच्छना (ठा ७—पत्र ३६३) ।
 °पवात, °पवाय पु [°प्रपात] एक ब्रह्म
 जहां से हरित् नदी निकलती है (ठा २, ३—
 पत्र ७२, टी—पत्र ७५) ।

हरि° देखो हरि° (भग, पि ६८, उत्त ३२,
 १०३) ।

हरिअ पु [°हरित] १ वर्ण-विशेष, हरा रंग ।
 २ वि. हरा वर्णवाला (श्रौप, खाया १, १
 टी—पत्र ४, १, ७—पत्र ११६, से ८,
 ४६, गा ६६५) । ३ पु एक आर्य मनुष्य-
 जाति (ठा ६—पत्र ३५८) । ४ पुन
 वनस्पति-विशेष, हरा तुण, सञ्जी (पएण
 १—पत्र ३०, श्रौप, पात्र, पच २, ५०,
 वस १०, ३) ।

हरिअ देखो हिअ = हत (कस, महा) ।

°हरिअ देखो भरिअ = भरित (गा ६३२) ।

हरिअग } न [हरितक] जीरा आदि के
 हरिअय } पत्तो से बना हुआ भोज्य विशेष
 (पव २५६, सुज २० टी) ।

हरिआ स्त्री [हारता] दुर्वा, दूब, तुण-विशेष
 (से ७, ५६, ६, ३१) ।

हरिआ देखो हरि (कुमा) ।

हरिआल देखो हरि-आल ।

हरिआली स्त्री [दे हरिताली] दुर्वा, दूब
 (दे ८, ६४, पात्र, अत, कप्प, अणु २३) ।

हरिएस देखो हरि-एस ।

हरिचदण देखो हरि-चदण ।

हरिचदण न [दे हरिचन्दन] कुकुम, केसर
 (दे ८, ६५) ।

हरिडय पु [हरितक] कोकण देश-प्रसिद्ध
 वृक्ष-विशेष (पएण १—पत्र ३१) ।

हरिण पु [हरिण] १ हिरन, मृग (कुमा) ।
 २ छन्द का एक भेद (पिग) । °च्छी स्त्री
 [°क्षी] सुन्दर नेत्रवाली स्त्री (कप्प) । °रि
 पु [°रि] सिंह (उप पृ २६) । °हिव पु
 [°धिप] वही (हे ३, १८०) ।

हरिणक पु [हरिणाङ्क] चन्द्र, चाँद (हे ३,
 १८०, कप्प, सण) ।

हरिणकुस पु [हरिणाङ्कुस] चौथे बलदेव के
 गुरु एक जैन मुनि (पउम २०, २०५) ।

हरिणगवेसि देखो हरिणेगमेसि (पउम ३,
 १०४) ।

हरिणी स्त्री [हरिणी] १ मादा हिरन, हिरनी
 (पात्र) । २ छन्द-विशेष (पिग) ।

हरिणेगमेसि पु [हरिनैगमैपिन्] शक्र के
 पदाति सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १—
 ३०२, अत ७, इक) ।

हरिद्वा देखो हलिद्वा (पि ३७५) ।

हरिमथ पु [दे] काला चना, अन्न-विशेष
 (आ १८, पव १५६, सबोध ४३, दे ८, ७०
 टि) । देखो हरिमथ ।

हरिमिग्ग पु [दे] लयुद्ध, लट्ठी, लाठी, डडा
 (दे ८, ६३) ।

हरियदपुर न [हरिचन्द्रपुर] गधवंनगर
 (चउप्पन्न० अणुभचरित्र) ।

हरिली देखो हिरिली (उत्त ३६, ६८) ।

°हरिल्ल वि [°भरवत्] भारवाला, बोझवाला
 (गा ५४५) ।

हरिस अक [हृष्] खुशी होना । हरिसइ
 (हे ४, २३५, प्रात्र, पड्), 'हरिसिअइ
 कयतावो व्हङ्काणोवगयचित्तो' (सबोध ४६) ।

हरिस सक [हर्ष] हर्ष से रोम खडा करना,
 'लोमादिय पि ण हरिसे सुन्नागारगो मुणी'
 (सूत्र १, २, २, १६) ।

हरिस पु [हर्ष] १ सुख । २ आनन्द, प्रमोद,
 खुशी (हे २, १०५, प्रात्र, कुमा, भग) । ३
 आभूषण विशेष (श्रौप) । °उर पुं [°पुर]
 एक जैन गच्छ (सुपा ६५८) । °ल वि
 [°वत्] हर्ष-युक्त (प्रात्र ३५) ।

हरिसण पु [हर्षण] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक
 योग (सुपा १०८) ।

हरिसाइय वि [हर्षित] हर्ष प्राप्त (प
 ६१, ७२) ।

हरिसाल देखो सरिसाल = हर्ष-वत ।

हरिसिअ वि [हर्षित] हर्ष प्राप्त, आर्णव
 (श्रौप, भवि, महा, सण) ।

हरी देखो हिरी (सूत्र १, १३, ६, भग) ।

हरीडई देखो हरडई (प्रात्र १२) ।

हरे अ [अरे] इन अर्थों का सूचक अर्थ—
 १ आक्षेप, निन्दा । २ समापण । ३ रति ब्रह्म
 (हे २, २०२, कुमा, स ४३०, पि ३३८) ।

हरेडगी देखो हरीडई (पचा १०, २५) ।

हरेणुया स्त्री [हरेणुका] त्रिपु पु, मालकणो
 (उत्तनि ३) ।

हरेस सक [हेप्] गति करना (नट-
 वेणी ६७) ।

हल न [हल] हर, जिससे खेत जोते हैं
 (उवा, श्रौप) । °उत्तय पुन [°युत्तक]
 हल जोतना, 'असुभे समयमि क्को वेण
 हलउत्तओ खित्ते' (सुपा २३७, २३६, सु
 २, ७७) । °कुड्ढाल, °कुड्ढाल पु [°कुड्ढाल]
 हल के ऊपर का भाग (उवा) । °धर पु
 [°धर] बलदेव, राम (पएण १७—पत्र
 ५२६, दे २, ५५) । °वारण पु [°धारण]
 बलभद्र, राम (पउम ११७, ६) । °वाहक
 वि [°वाहक] हालिक, हल जोतनेवाला
 (आ २३) । °हर देखो °धर (सम ११३,
 पव—गाथा ४८, श्रौप, कुप्र २५७) ।
 °उह पु [°युध] बलभद्र, राम (पउम
 ३८, २३, ७६, २६) ।

°हल देखो फल = फल (सुपा ३६६, नर्वि,
 वि १०३) ।

हलअ (मा) देखो हिअय = हृदय (चाव ११,
 नाट—पृच्छ २१) ।

हलउत्तय देखो हल उत्तय ।

हलद्वा } देखो हलिद्वा (हे १, ८८, कुमा,
 हलदी } पड्) ।

हलपप वि [दे] बहु-भाषी, वाचात वि
 ८, ६१) ।

हलबोल पु [दे] कलकल, शोरपुल, कोलाहन
 (दे ८, ६८, पात्र, कुमा, सुपा ८७, १३२,
 हट्टि १८०, कुप्र ३६२, पिरि ४३३, सम्मत
 १२२) ।

इस क्रम के विषय में कतिपय सुप्रसिद्ध विद्वान् और पत्रकारों के

कुछ अभिप्राय

A few Opinions of some Savants & Journalists regarding the PRAKRIT DICTIONARY.

Prof. Earnest Leumann (in the journal of Royal Asiatic Society, London, July, 1924.

‘During recent years several scholars in India have tried to bring out a Prākṛit Dictionary. However, no one seems to have succeeded in publishing more than a small specimen. Only recently, towards the end of 1923, there has appeared a new start, which is no longer a simple specimen, but an elaborate first part, comprising no less than 260 large size pages. In this volume all words beginning with vowels are included. And, if the following parts, which are to embrace the words beginning with consonants, carries on the Dictionary in the same lines, it will be finished in about seven such parts, and will contain nearly 2000 pages. On its completion Indian philology will certainly be congratulated from all sides, and Prākṛit literature, which is so immensely rich may then be studied as it ought to be, in intimate connexion with Sanskrit lore, which has long possessed Lexicographic aids of all kinds.

The title of the forthcoming dictionary is Pāta-sadda-mahāsamudra, “the great ocean of Prākṛit words.” Its compiler is Pandit Haigovind Das V. Shobh, Lecturer in Prākṛit in the Calcutta University.

The meaning of the words are given both in Hindi and in Sanskrit, and each entry is furnished with references to text passages. Sometimes also the text passages are fully quoted (forming generally a verso called Gāthā or Āryū).

Comprehensiveness and accuracy are the qualities most desired in a dictionary. As to the first quality, I may mention that the texts worked up in the dictionary seem to number about 200 or more. Even in the first ten pages a full hundred titles are quoted. (Aṅga, Aṅg, Anu = Anuyogaḍvāra-sūtra, Anta = Anatkṛd-dasū, Abhi, Aṅg = Aṅgāṅga, Aṅg = Aṅga-sūtra, Āva = Āvaśyaka, and others). And, as to the second quality, it may be stated that in the reference mistakes are scarcely detectable. Also errors in the quoted editions are corrected, so early as the second entry of the first page we are, for Pkt. *aa* = *ak*, *aa*, rightly referred to Pauma-carīya 113, 14, where the edition has by mistake Avirāho instead of a Virāho,

Consequently I may be allowed to recommend Pandit Shobh's Prākṛit Dictionary to all Sanskrit scholars as well as to Sanskrit libraries—and, what will probably do more to the final success of the undertaking, to the Government authorities.”

हलहर देखो हल-हर = हल-घर ।

हलहल देखो हडहड = (दे) । (गा २१) ।

हलहल } पुन [दे] १ तुमुल, कोलाहल,
हलहलअ } शोरगुल (दे ८, ७४, से १२,
८६) । २ कौतुक, कुतूहल (दे ८, ७४,
स ७०४) । ३ त्वरा, हडबडी, हलफल,
शीघ्रता, 'हलहलभो तरा' (पात्र, स ७०४) ।
४ औत्सुक्य, उत्कंठा (गा २१, ७८०) ।

हलहलिअ वि [दे] कम्पित, काँपा हुआ
(पिभ) ।

हला अ [हला] सखी का आमन्त्रण, हे सखि
(हे २, १६५, स्वप्न ४०, अमि २६, कुमा,
गा ४३०, सुपा ३४६) ।

हलाहल न [हलाहल] एक प्रकार का उग्र
जहर, विष विशेष (प्रासू ३८) ।

हलाहला ली [दे] वभणिका, बाम्हनी, जन्तु-
विशेष (दे ८, ६३) ।

हलि पु [हलिन्] बलराम, बलभद्र (पउम
७०, ३५, कुप्र १०१) ।

हलिअ वि [हलिन्] हल जोतनेवाला, कृषक
(हे १, ६७, पात्र, प्राप्र, गा १०७, ३१७,
३६०) ।

°हलिअ देखो फलिअ (गा ६) ।

हलिआ ली [हलिआ] १ छिपकली । २
बाम्हनी, जन्तु विशेष (कप्प) ।

हलिआर देखो हरि-आल = हरि-ताल (हे
२, १२१, पड्) ।

हलिइ पु [हरिद्र, हारिद्र] १ वृक्ष-विशेष
(हे १, २५४, गा ८६३) । २ वणं विशेष,
पीला रंग । ३ न नाम-कर्म का एक भेद,
जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी के
समान पीला होता है वह कर्म (कम्म १,
४०) । °पत्त पु [°पत्त] चतुरिन्द्रिय जन्तु
की एक जाति (पण १—पत्र ४६) ।

°मन्ड पु [°मन्ड] मछली की एक जाति
(पण १—पत्र ४७) ।

हलिदा } ली [हरिद्र] औषधि विशेष, हल्दी
हलिदी } (हे १, ८८, २५४, गा ५८, ८०,
२४६) ।

हलीसागर पु [हलिमागर] मत्स्य की एक
जाति (पण १—पत्र ४७) ।

हलुअ वि [लघुक] हलका (हे २, १२२,
स ७४५) ।

हलूर वि [दे] सतुण, सस्पृह (दे ८, ६२) ।
हल अ [हले] हे सखि, सखी का संबोधन
(हे २, १६५, कुमा) ।

हल अक [दे] हिलना, चलना । हलति
(सट्टि ६८) । वक्क हलंत (उवकु २१, सुपा
३४, २२३, वज्जा ४०, से ८, ४५) ।

हल पु [हल] एक अनुतर-गामी जैन मुनि
(अनु २ पडि) ।

हलअ न [हलरु] पच-विशेष, रक्त कल्लार
(विक्र २३) ।

हलपविअ वि [दे] त्वरित, शीघ्र (पड्) ।

हलपफल न [दे] १ हलफल, हडबडी,
औत्सुक्य, त्वरा, शीघ्रता (हे २, १७४, स
६०२, कुमा) । २ आकुलता, 'अह उवसते
करिणो हलपफले' (सुपा ६३६) । ३
वि. कम्पनशील, काँपता, चञ्चल, 'पास-
द्विओवि दीवो सहसा हलपफलो जाओ'
(वज्जा ६६) ।

हलपफलिअ वि [दे] १ शीघ्र, जल्दी । २
न आकुलता, व्याकुलपन (दे ८, ५६) ।
३ वि. व्याकुल (धर्मवि ५६) ।

हलफल देखो हलपफल (गा ७६) ।

हलपफलिअ देखो हलपफलिअ, 'विमलो
आह लोहेण, तो हलपफलिओ इम' (आ १२) ।

हलाविय वि [दे] हिलाया हुआ (सुर ३,
१०६) ।

हलिअ वि [दे] हिला हुआ, चलित (दे ८,
६२, भवि) ।

हल्लिर वि [दे] चलन-शील, हिलनेवाला (स
५७८, कुप्र ३५१) ।

हल्लीस पु [दे] रासक, मण्डलाकार होकर
स्त्रियो का नाच (दे ८, ६१, भवि) ।

हल्लुत्ताल } न [दे] शीघ्रता, जल्दी, त्वरा,
हल्लुत्तावल } पुजराती में 'उतावल' (भवि,
सुर १५, ८८) ।

हल्लुपफलिय देखो हल्लुपफलिअ (जय १२) ।

हल्लोहल देखो हल्लुपफल (उप पु ७७, आ
१६, हे ४, ६६६, उप ७२८ टी, सुख १८,
३७, महा, भवि) ।

हल्लोहलिअ देखो हल्लुपफलिअ (सिरि ६६४,
६३४, भवि) ।

हल्लोहलिय पुळी [दे] सरट, गिरगिट । ली.
°या (कप्प) ।

हव अक [भू] १ होना । २ सक, प्राप्त
करना । हवइ, हवेइ, हवति (हे ४, ६०,
कप्प, उव, महा, ठा ३, १—पत्र १०६),
'कि इक्खुवाडमज्जकट्टिओ नलो हवइ महरत्'
(धर्मवि १७), हवेज्ज, हवेज्जा (पि ४७५) ।
वक्क हवत, हवेमाण (पड्) ।

°हव देखो भव = भव (उप ४६४) ।

हवण न [हवण] होम (विते १५६२) ।

हवि पुन [हविस] १ घृत, घी । २
हवनीय वस्तु (स ६, ७१४, वसति १,
१०४) ।

हविअ वि [दे] भक्षित, चुपडा हुआ (दे ५,
२२, ८, ६२) ।

हव्व वि [हव्व] हवनीय पदार्थ, होम-योग्य
वस्तु (सुपा १३३) । °वह पुं [°वह] अग्नि,
आग (उप ५६७ टी, सुपा ४१६, गडड) ।
°वाह पु [°वाह] वही (आचा, पात्र,
सम्मत २२८, वेणी १६२, वस ६, ३५) ।

हव्व वि [अर्वाच्] १ अवर, पर से अन्य,
'नो हव्वाए नो पाराए' (आचा, सूअ २, १,
१, ८, १०, १६, २४, २८, ३३) । २ न.
शीघ्र, जल्दी (एया १, १—पत्र ३१, उवा,
सम ५६, विपा १, १—पत्र ८, ती १०,
श्रीप, कप्प, कस) । ३ न. गृहवास (सुत्र-
कृ २-१-६ चूणि) ।

°हव्व देखो भव्व = भव्य (गा ३६०, ४२०,
४७६) ।

हस अक [हस्] १ हँसना, हास्य करना ।

२ सक उपहास करना, मजाक करना ।
हसइ, हसेइ, हसए, हसति, हससि, हससे,
हसित्था, हसह, हसामि, हसमि, हसामो,
हसामु, हसाम, हसेम, हसेमु (हे ३, १३६,
१४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १५४,
१५८, कुमा) । हसेउ, हसउ, हससु, हसेज्जसु,
हसेज्जहि, हसेज्जे, हसेज्ज, हसेज्जा (हे ३,
१५८, १७३, १७५, १७६) । भवि, हसिहिइ
हसिस्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा, हसिहित्था,

Sir, George A Grierson, K O I E , P H D , D. L I T T , L L D.

"I must congratulate you on the success you have achieved in compiling this excellent book I have already been able to make use of it and have found it a help in my work "

Jainacharya Shri Vijayendra Sureshwarjee. Itihās tattva-mahodadhī

"A big dictionary named Pāṇi-sadda-Mahannavo (पाणि-सद-महणवो) is being composed and edited by Nyaya-Vyakarana-tūtha Pandit Hargovind Das Trikamchand Sheth, Prākṛit Lecturer, Calcutta University Three of its parts have already been brought into light On seeing these parts and the work done therein, one cannot but say that it is excellent

We cannot help saying frankly and impartially that amidst all dictionaries of the type in existence this Kosha takes its first place. In absence of such a good Prākṛit dictionary Prākṛit-scholars had great many difficulties. To remove them Pandit Hargovinddas has taken immense pains in producing this work and has put Prākṛit-scholars at large to great obligation Pandit Hargovinddas deserves all honour for such a nice work

We are conversant with Pandit Hargovinddas's vast knowledge and originality It gives us a great pleasure to note that these two things in him have gone a great way to make the dictionary very valuable and useful We can, without the least hesitation, say that Pandit Hargovinddas can well stand in the category of high culture. × × × It is the duty of all scholars in the field of learning and specially that of Jain samaj to encourage by extending their helping hand towards such learned man rendering services to Jain literature and Jain Religion."

Dr. Geuseppe Tucci, Professor of Sanskrit, Rome University "The Prākṛit Dictionary is very useful in my study "

Dr M Winternitz, Professor of Prague University "Many thanks for the first two parts of the Prākṛit Dictionary which is very useful to me"

Dr F. W Thomas M A , P H D , Chief Librarian, India office, London "I have myself consulted the book and found it useful It is based upon a very large number of texts "

Prof A B Dhruva, Pro Vice Chancellor, Hindu University, Benares "I have seen Mr Hargovinddas Sheth's Prākṛit Dictionary It represents a genuine attempt to supply a need which has long been felt and I am sure it will receive the appreciation which it so well deserves"

Dr. Sumit Kumar Chatterji, M A , D L I T T , Professor of Calcutta University. (in the Calcutta Review, February and December, 1924) "The work is not a mere compilation of glossaries It contains ample evidence of Pandit Sheth's wide reading in Prākṛit literature and of his vast labours in the field .. It will be a very useful publication and no student of Prākṛit and of modern Indo-Aryan languages can afford to be without it The work so far accomplished by Pandit Sheth, is an extremely laborious one requiring not only great scholarship, but also great patience. Pandit Sheth, ought to receive entire support from all interested in Prākṛit and Jain studies

Those who have had occasion to use this work and can testify to its excellence and usefulness will be pleased to see that it has received proper appreciation from competent scholars in the domain of Prākṛit and Indian Philology both in India and Europe. The Calcutta University can well be congratulated in possessing such an erudite scholar of Prākṛit in Pandit Hargovinddas."

हसिस्व (हे ३, १६६, १६७, १६८, १६९)। कर्म हसीअइ, हसिज्जइ, हसिज्जति (हे ३, १६०, १४२)। वक्क हसत, हसैत, हसमाण (श्रौप, हे ३, १५८, १८२, (षड्)। क्वक्क हसिज्जंत, हसीअत, हसीअमाण, हसिज्जमाण, हसेज्जमाण (हे ३, १६०, उप ५६७ वे, सुर १४, १८०)। सक्क हसिऊण, हसेऊण, हसिउआण, हसिउआण, हसेउआण, हसेउआण, हसिऊण (हे ३, १५७, पि ५८४, ५८५)। हेक्क हसिउ, हसेउ (हे ३, १५७)। क्क हसिअव्व, हसेअव्व, हसणीअ (परह २, ५—पत्र १४६, हे ३, १५७, षड्, सक्ति ३४, नाट—मुच्छ ११४)।

हस अक [हस] हीन होना, कम होना। हसइ (पच ५, ५३)।

हस पुं [हास] हास्य (उप १०३१ टी)।

हसण बीन [हसन] हास्य, हँसी (भग, उक्त ३६, २६२, पचा २, ८)। बी. णा (उप ४ २७५)।

हसहस अक [हसहसाय] ? उत्तेजित होना। २ सुलगना, 'सिगाररसत्तु (?) इया मोहमईकु कुमा हसहसेइ' (सुख १, ८)। वक्क हसहसित (दसनि ३, ३५)। संक्क हसहसेऊण (राज)।

हसाव देखो हास = हासय्। हसावइ, हसावेइ (हे ३, १४६)।

हसिअ वि [हसित] ? जिसका उपहास किया गया हो वह (उव ११३)। २ न हास्य, हँसी (उव २२४)।

हसिअ वि [हसित] हास-प्राप्त, हीन (पच ५, ५३)।

हसिर वि [हसित्] हास्य-कर्ता, हँसने की आदतवाला (प्राप्र, गा १७४, उप ७२८ टी, सुर २, ७८, कुमा)। बी 'री (गउड)।

हसिरिआ बी [दे] हास, हँसी (दे ८, ६२)।

हसस अक [हस] कम होना, न्यून होना, क्षीण होना। वक्क हससमाण (एदि ८२ टी)।

हसस देखो हस = हस्। हससइ (घात्वा १५७)। कर्म हससइ (घात्वा १५७, हे ४, २४६)।

हसस न [हास्य] १ हँसी (आचा १, २, १, २, पव ७२, नाट—मुच्छ ६२)। २ पु महाकन्दित नामक देवो का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। 'गय न [गत] कला-विशेष (स ६०३)। 'रइ पु [रति] इन्द्र-विशेष, महाकन्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)।

हसस वि [हस्य] १ लघु, छोटा (सुप्र २, १, १५, पव ५४)। २ वामन, खवं (पाश्र)। ३ अल्प, थोडा (भग, पच ५, १०३, कम्म ५, ८४)। ४ पु एक मात्रावाला स्वर (परण ३६—पत्र ८४६, विसे ३०६८)।

हससण वि [हसण] हस्य-कारक 'रोमहससणो जुद्धसमहो' (विक्र ८७)।

हसिर देखो हसिर, 'अ-हसिरसे सदा दते' (उक्त ११, ४, सुख ११, ४)।

हहह } अ [हहह, हा] ? इन अर्थों का हहह } सूचक अव्यय—? आश्चर्य (प्रयौ ७४)। २ खेद, विषाद (सिरि ६१२)।

हहा पु [हहा] ? गन्धर्व देवो की एक जाति (हे ३, १२६)। २ अ खेद-सूचक अव्यय (सिरि २६८, ७६७)।

हा अ [हा] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ विषाद, खेद (सुर १, ६६, स्वप्न २७, गा २१८, ७५४, ६६०, प्रासू २०)। २ शोक, दिलगीरी। ३ पीडा। ४ कुत्सा, निन्दा (हे १, ६७, २, २१७)। 'कद पु [क्रन्द] हाहाकार (पिंग)। 'रव पुं [रव] वही अर्थ (सुर २, १११)।

हा सक [हा] १ त्याग करना। २ गति करना। ३ क्षीण करना, हीन करना, कम करना। हाइ (षड्)। कर्म हायइ, हायति (भग, उव), हिज्जइ (भवि), हिज्जउ (प्रयौ १०७)। क्वक्क हायत (णाय १, १० टी—पत्र १७१), हीयमाण (काल)। सक्क हाउ (उवकु १०, ११), हिचा, हिचाण (आचा १, ४, ४, १, पि ५८७), देच, हेचा (सुप्र १, २, ३, १, उक्त १८, ३५),

हेचाण, हेचाण (पि ५८७)। क्क हे (स ५६५, पंचा ६, २७, अणु ८, पण)। 'हा देखो भा—बी (गउड)।

हाअ देखो हा—सक। हाअइ, हाअए (पर)। हाअ सक [हाद्य] अतितार लेख उत्पन्न करना। हाएज्ज (पिठ ६४६)।

'हाअ देखो भाअ = भाग (से ८, ८२४)।

'हाअ देखो घाय = घात (से ७, ५६)।

'हाअ देखो भाव = भाव (से ३, १५)।

हाउ देखो भाउ, 'मह वरण महाराजि

हाथा तुहँ भणइ' (गा ८७२)।

हासल देखो हसल (राज)।

हाकद देखो हा-कद।

हाकलि बी [हाकलि] छन्द का एक (पिंग)।

हाडहड न [दे] तत्काल, तत्क्षण (व १)

हाडहडा बी [दे] आरोपणा का एक प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ५, २—पत्र १२)

निव्व २०)।

हाणि बी [हानि] क्षति, अपचय (भवि)।

हाम अ [दे] इस तर्ह, इस प्रकार, 'हाम भण' (प्राक्क ८१)।

हायण पुं [हायन] वर्ष, सवत्सर (कौ)

णाय १, १ टी—पत्र ५७)।

हायणी बी [हायनी] मनुष्य की दस दशा

मे छठवी अवस्था (ठा १०—पत्र ५१६, १०)।

हार सक [हारय] ? नाश करना।

हारना, परामव पाना। हारेइ, हारय (उ

महा)। वक्क हारत (सुपा १५६)।

हार पु [हार] ? माला, अठारह तरु वं

मोती आदि की माला (कम्म, राय १०२)

उवा, कुमा, भवि)। २ हरण, अपहरण (स

१)। ३ द्वेष-विरोध। ४ समुद्र विशेष (बी

३, ४—पत्र ३६७)। ५ हरण कला, 'अत

हार' (आचा १, २, ३, ५)। 'पुडकु

[पुड] घातु-विशेष, तोहा (आचा ३, ६,

१, १)। 'भद पु [भद्र] हारका

का अविष्ठाता एक देव (जीव ३, ४—प

३६७)। 'महाभद पु [महाभद्र] ल

द्वीप का एक अविष्ठाता देव (जीव ३, ४)।

'महावर पु [महावर] हार-समुद्र का एक

Dr. B M Barua, M A, D Litt, Professor of Pali, Calcutta University "I can quite understand that the task undertaken by you is a self-imposed one, and you are sure to render a permanent service in the cause of Indology by completing the same. A handy and at the same time comprehensive Piākrit dictionary has been a long-felt desideratum. After going through the printed parts of your lexicon I find reasons to hope that your single-handed labour will go to remove it to a great extent. I have not seen elsewhere an attempt of this kind. . . What I sincerely wish is the consummation of the noble task you are engaged upon with the indefatigable zeal and unflinching devotion of a scholar like yourself who has been born and brought up in a religious tradition footing the culture of Piākrit languages."

Dr I. J. S Taraporewala, B A., PH D, Bar-at-law, Professor of Comparative Philology, Calcutta University "The author has already considerable reputation as a teacher of Prākṛit in the University of Calcutta and also as a deep scholar in Jaina Literature and Philosophy. For many years he has had the preparation of a Piākrit Dictionary. In contemplation that for that he set about a systematic course of reading in all the various branches of Piākrit Literature. As a result of this enormous amount of labour the Panditji has now given us the first three volumes of his Prākṛit Dictionary. To students of Piākrit this book will supply a greatly felt want and the work is very well done indeed for the general reader. In any case the work is an useful one and should help all earnest students."

Prof. Vidhushekhar Bhattacharya, M A, Principal, Vishva-Bhārati, Shānti-Niketan, Bolpur, (in the Modern Review, April, 1925).

The author hardly needs introduction to those who have acquaintance with Yasovijaya Jaina Granthamala. His present work is Piākrit-Hindī Dictionary. We extend our hearty welcome to it.

A Prākṛit Dictionary of this kind was a desideratum and every Piākrit lover should feel thankful to Pandit Hargovindadas who has now supplied it. We have not the least doubt in saying that the students of Piākrit will be much benefited by it. It supplies Sanskrit equivalents so far as possible, quotes authorities and gives references. The words are explained in Hindi, yet the language is so simple that it can be used by any one knowing some vernacular of northern India."

Indian Antiquary, February, 1925 This is the first part of a dictionary of the Piākrit language intended to be completed in four parts. It is a comprehensive dictionary of the Prākṛit language giving the meaning of Prākṛit words in Hindi. It provides at the same time the Sanskrit equivalents of the Prākṛit words. The dictionary as a whole contains about seventy thousand words. The author Pandit Hargovinddas T Sheth, Lecturer, Calcutta University, has taken care to support the meanings that he gives by quotations from the original sources giving complete references. It removes one of the desiderata for a satisfactory study of the vast Prākṛit literature which still remains unexplored but inadequately by scholars Indian and European. It is likely to be of great assistance in promoting this desirable study. The author deserves to be congratulated upon the result of his labours in this good cause. The work is a monument of his learning and effort and it is to be hoped that this industry will be suitably rewarded to encourage him to go on with his work and complete it as originally projected in four parts."

हाम पुं [हास] क्षय, हानि (धर्मस ११६४)।
 हास देखो हरिस = हर्ष (श्रोप)।
 हासकर देखो हास-कर (सुपा ७८)।
 हास-कुहय वि [हारयकुहक] हास्य-जनक
 कौतुक-कर्ता (दम १०, २०)।
 हासण वि [हासन] १ हास्य करानेवाला
 (पव ७३ टी)। २ हास्य-कर्ता (आचा २,
 १५, ५)।
 हासा स्त्री [हासा] एक देवी (महा)।
 हामाविअ } वि [हासित] हँसाया हुआ
 हासिअ } (गा १२३, पङ्, कुमा, हे
 ३, १५६)।
 हासि वि [हासिन्] हास्य कर्ता (आचा २,
 १५, ५)।
 हासिअ वि [हास्य] हँसने योग्य, 'चडु-
 आरअर पई मा ह पुत्ति जणहासिअ कुणसु'
 (गा ६०५, हे ३, १०५)।
 हासिअ देखो भासिअ = भाषित (नाट—
 विक्र ६१)।
 हासीअ न [दे हास्य] हास, हँसी (दे न,
 ६२)।
 हाहकार देखो हाहा-कार, 'हाहकारपुहरवा'
 (पउम १७, १०)।
 हाहा पु [हाहा] गन्धर्व देवी की एक जाति
 (सुपा ५६, कुमा, धर्मवि ४८)। २ अ
 विलाप, हाहाकार, शोकजनित (पाप्र, भग
 ७, ६—पत्र ३०५)। ३ कर न [कृत]
 हाहाकार, शोक-शब्द (आया १, ६—पत्र
 १५७)। ४ कार पु [कार] चहो (महा,
 भवि, वेणी १३६)। ५ भूअ वि [भूत]
 हाहाकार को प्राप्त (भग ७, ६—पत्र
 ३०५)। ६ रव पु [रव] हाहाकार (महा,
 सुपा १३६, भवि)। ७ हूह [हूह] संख्या-
 विशेष 'हाहाहूहभग' को चौरासी लाख से
 उनने पर जो संख्या लब्ध हो वह (इक)।
 ८ हूहअग न [हूहअङ्ग] संख्या-विशेष,
 'गगम' को चौरासी लाख से उनने पर जो
 संख्या लब्ध हो वह (इक)।
 हि अ [हि] इन अर्थों का सूचक अन्वय—१
 अघघारण, निश्चय (स्वप्न १०)। २ हेतु,
 कारण (कुमा ८, १७, कप्पू)। ३ एवम्,

इस तरह (गउड ३२४, सण)। ४ विशेष।
 ५ प्रश्न। ६ सन्नम। ७ शोक। ८ असूया।
 ९ पाद-पूरण (कुमा, गउड, गा २४२,
 २६५, ६०२, ६४८, पिग, हे २, २१७)।
 हिअ वि [हृत] १ अघहत, छीना हुआ
 (आया १, १६—पत्र २१५, पउम ५, ७३,
 ३०, २०, सुर ६, १७५)। २ नीत, जो
 दूसरी जगह ले जाया गया हो वह (पाप्र,
 हे १, १२८)। ३ विनष्ट, स्फोटित (पिड
 ४१५)। ४ आडुट, खींचा हुआ, 'हियहियए'
 (राम)।
 हिअ न [हित] १ मङ्गल, कल्याण। २
 उपकार, भलाई (उत्त १, ६, पउम ६५,
 २१, उव, ठा ४, ४ टी—पत्र २८३, प्रासू
 १४)। ३ वि हित कारक, उपकारी (उत्त
 १, २८, २६, उव ३२६, ४५०, प्रासू
 १४)। ४ स्थापित, निहित (भत ७८)।
 ५ कर वि [कर] १ हितकारक (ठा ६)। २
 पु. दो उपवास (सदोष ५८)। ३ एक
 बणिक का नाम (पउम ५, २८)। ४ कार वि
 [कार] हित-कारक (श्रु १४६)। ५ यर
 देखो कर (पउम ६५, २१)।
 हिअ देखो हिअय = हृदय (हे १, २६६,
 कुमा, आचा, कप्पू)। ६ इट्ट वि [इट्ट]
 मन प्रिय (पउम ८५, २३)। ७ उड्डावण वि
 [उड्डायन] चित्ताकर्षण का साधन (आया
 १, १४—पत्र १८७)। ८ चित्त को शून्य
 बनानेवाला (विपा १, २—पत्र ३६)।
 हिअ न [घृत] घी (सुव १८, ४३)।
 हिअउल्ल (अप) देवी हिअय = हृदय (कुमा)।
 हिअकर पु [हितकर] राम पुत्र कुश के पूर्व
 जन्म का नाम (पउम १०४, २६)।
 हिअड्ड } (अ) देवी हिअय = हृदय (हे
 हिअड्डुड्ड } ४, ३५०, पि ५६६, सण)।
 हिअय न [हृदय] १ अन्त करण, हिया, मन
 (हे १, २६६, स्वप्न ३३, कुमा, गउड, द
 ४६, प्रासू ४४)। २ वज्रस्त्र, छाती (से ४,
 २१)। ३ पर त्रस (प्राप्र)। ४ गमगीअ नि
 [गमनीय] हृदयगम, मनोहर (मम ६०)।
 ५ हारि वि [हारिन] चित्ताकर्षक (उव
 ७२८ टी)।

हिअय देखो हिअ = हित, 'कुडेहि जेह
 जणो अयाणो हिअयमगम्मि' (उप ७६८
 टी)।
 हिअयगम वि [हृदयगम] मनोहर, चित्ता
 कर्षक (दे १, १)।
 हिआली स्त्री [हृदयाली] काव्य-समस्या
 विशेष, गूढार्थक काव्य विशेष (वग्ग
 १२४)।
 हिइ स्त्री [हृति] १ अघहरण। २ न, त्या
 नान्तर मे ले जाना (सक्ति ५)।
 हिएसय वि [हितैपक] हितैच्छु, हित चाहने
 वाला (उत्त ३४, २८)।
 हिएसि वि [हितैपिन्] ऊपर देखो (उत्त
 १३, १५, उव ७२८ टी, सुपा ४०४,
 पुष्क १०)।
 हिओ अ [ह्यस्] गत कल (अभि ५६,
 प्राप, पि १३४)।
 हिंग पु [दे] जार, उपपत्ति (दे १, ४)।
 हिंगु पुन [हिङ्गु] १ वृक्ष-विशेष, हींग का
 गाद्य (परण १—पत्र ३४)। २ हींग, 'अए
 लोणे हिङ्ग सकामण फोडणे घूमे' (पिड २५,
 स २५८, चार ७)। ३ सिन पु [शिन्]।
 व्यन्तर देव-विशेष (दसनि १, ६६)।
 हिगुल पुन [हिङ्गुल] पाश्चिमी घातु विशेष,
 हिगुल, सिंगरफ (परण १—पत्र २५, ती
 २, जो ३, सुख ३६, ७५)।
 हिगुल पुन [हिङ्गुल] ऊपर देखो (उत्त ३६,
 ७५, कप्पू)।
 हिगोल पुन [दे] मृतक-भोजन, मित्रों के
 मरण के उपलक्ष्य मे दी जाती चीनी,
 श्राद्ध। २ यज्ञ आदि के यात्रा के उपनयन में
 किया जाता जोमनवार (आया २, १,
 ४, १)।
 हिचिअ न [दे] एक पैर में चलने की गत
 क्रीडा (दे न, ६८)।
 हिजोर न [हिजोर] शृंगारक, पित्तरी,
 संचल (दे ६, ११६, गउड)।
 हिड नक [हिण्ड] १ अमण वरक। २
 जाना, चाना। हिड (सुपा ३८४, मणी,
 हिडिज्जा (श्रोप २५४)। कर्म हिडिज्ज, मा
 ४०)। वट्ट, हिडत (गा १३८)। इ हिडि-

अच्छिप्य वि [अस्पृश्य] छूने के अयोग्य (सुपा २२१) ।

अच्छिप्यत वि [अस्पृशत] स्पर्श नहीं करता हुआ (आ १२) ।

अच्छिप्य वि [आसित] बैठा हुआ (पि ४८०, ५६५) ।

अच्छिपवण न [दे] आँख का मूंदना (दे १, ३६) ।

अच्छिपिअच्छि स्त्री [दे] परस्पर-आकर्षण, आपस की खींचतान (दे १, ४१) ।

अच्छिहरिल्ल } देखो अच्छिघरुल्ल (दे
अच्छिहरुल्ल } १, ४१) ।

अच्छी देखो अच्छि (रभा) ।

अच्छुक्क न [दे] अक्षि-रूप-नुला, आँख का कोटर (सुपा २०) ।

अच्छुत्ता स्त्री [अच्छुत्ता] १ एक विद्यावि-
द्याली देवी (ति ८) । २ भगवान् मुनिसुव्रत
स्वामी की शासनदेवी (सति १०) ।

अच्छुद्धिसिरी स्त्री [दे] इच्छा से अधिक फल
की प्राप्ति, असमाहित लाभ (पड्) ।

अच्छुल्लूह वि [दे] निष्कासित, बाहर निकाला
हुआ, स्थान-भ्रष्ट किया हुआ (वृह १) ।

अच्छेज्ज देखो अच्छिज्ज (ठा ३, २, ४) ।

अच्छेर | न [आश्चर्य] १ विस्मय चमत्कार
अच्छेरग (हि १, ५८) । २ पुन विस्मय-जनक
अच्छेरय घटना, अपूर्व घटना (ठा १०,
१३८) । ३ कर वि [कर] विस्मय-जनक,
चमत्कार उपजातेवाला (आ १४) ।

अच्छोड सक [आ + छोटय्] १ पटकना,
पछाडना । २ सिचना, छिटकना, 'अच्छोडेमि
सिलाए, तिल तिल किं नु छिदामि' (सूर १५,
२३, सूर २, २४५) ।

अच्छोड पु [आच्छोट] १ सिचन । २
आस्फालन करना, पटकना (शोध ३५७) ।

अच्छोडण न [आच्छोटन] १ सिचन । २
आस्फालन (सूर १३, ४१, सुपा ५६३, वेणी
१०६) । ३ मृगया, शिकार (दे १, ३७) ।

अच्छोडाविय वि [दे आच्छोटित] वचिंत,
वधाया हुआ (स ५२५, ५२६) ।

आच्छोडिअ वि [दे] आठथ, खींचा हुआ,
'अच्छोडिअवर्यद्ध (सा १६०) ।

अच्छोडिअ वि [आच्छोटित] सिक्क, सिंचा
हुआ (सूर २, २४५) ।

अच्छोडिअ वि [आच्छोटित] पटका हुआ,
आस्फालित (कुप्र ४३३) ।

अच्छिप्य वि [अस्पृश्य] स्पर्श करने के अयोग्य,
'सो सुणओच्च अछिप्पो कुलुगगयाए, न उए
पुरिसो' (सुपा ४८७) ।

अज देखो अय = अज (पचम ११, २५, २६) ।

अजगर देखो अयगर (भवि) ।

अजड पु [दे] जार, उपपति (पड्) ।

अजड वि [अजड] १ पक्क, विकान्त
(गडड) । २ निपुण, चतुर (कुमा) ।

अजम वि [दे] १ सरल, ऋजु (पड्) । २
जमाईन (पभा १५) ।

अजय वि [अयन] १ पाप-कर्म से अवरित,
नियम-रहित (कम्म ४) । २ अनुयोगी, यत्न-
रहित (अयो ५४) । ३ उपयोग-शून्य, वेध्याल
(सुपा ५२२) । ४ क्रिचि वेध्याल से, अनुप-
योग से, अजय चरमारो य पाणभुयाइ हिंसइ
(दस ४, उवर ४ टी) ।

अजय पु [अजय] षट्पद छंद का एक भेद
(पिंग) ।

अजयगा स्त्री [अयतना] अनुपयोग, ख्याल
नहीं रखना, गफलती (गच्छ ३) ।

अजर वि [अजर] १ बुढ़ावस्था-रहित, बुढ़ाप-
वर्जित । २ पु देव, देवता (आवम) । ३ मुक्त
आत्मा (शोध) ।

अजराउर वि [दे] जण, गरम (दे १, ४५) ।

अजरामर वि [अजरामर] १ बुढ़ाप और
मृत्यु से रहित, 'एतिय कोइ जगमि अजराम-
ररो' (महा) । २ न मुक्ति, मोक्ष । ३ स्त्री
'रा विद्या-विशेष (पचम ७, १३६) ।

अजस पु [अयशस्] १ अपयश, अपकीर्ति
(उप ७६८) । २ कित्तिणाम न [कीर्ति-
नामन्] अपकीर्ति का कारण-भूत एक कर्म
(सम ६७) ।

अजस्स क्वि [अजस्स] निरन्तर, हमेशा,
'आमरणतमजस्स सजमपरिपालए विहिणा'
(पचा ७) ।

अजा देखो अया (कुमा) ।

अजाण वि [अज्ञान] अनजान, मूर्ख (रयण
८५) ।

अजाणअ वि [अज्ञान] अनजान, जानकारी-
रहित (काल) ।

अजाणणा स्त्री [अज्ञान] जानकारी रहित
समझी, 'अघारणाए तज्जती न कया ती'
(आ २८) ।

अजाणुय वि [अज्ञायक] अज्ञ, नहीं जान
वाला (ठा ३, ४) ।

अजाय वि [अजात] अनुत्पन्न, अनिष्ट
'कटप पु [कल्प] शालो को पूरा पूरा
जाननेवाला जैन साधु, अगीतार्थ, 'की
जायकप्पो अगीमो खलु भवे अजायो म'
(३) । 'कटिपय पु [कल्पि] अजा
जैन साधु (गच्छ १) ।

अजिअ वि [अजित] १ अपराजित, अ-
भूत । २ पु दूसरे तीर्थंकर का नाम (१
१) । ३ नववे तीर्थंकर का अधिष्ठाता
(सति ७) । ४ एक भावी बलदेव (ती २)
'बला स्त्री [बला] भगवान् अजितनाम
शासनदेवी (पव २७) । 'सेण पु [से
१ एक प्रसिद्ध राजा (आव) । २ चौथा मु-
(ठा १०) । ३ एक विख्यात जैन
(अत ४) ।

अजिअ पु [अजित] भगवान् महिनाम
प्रथम आचक (विचार ३७८) ।

'नाह पु [नाथ] नववा र्द्ध पुरुष (वि
४७३) ।

अजिअ वि [अजीव] जीव-रहित, अचल
(कम्म १, १५) ।

अजिअ वि [अजय्य] जो जीता न जा सके
(सुपा ७५) ।

अजिया स्त्री [अजिता] १ भगवान् अजित-
नाथ की शासन देवी (सति ६) । २ चतु-
तीर्थंकर की एक मुख्य गिण्या (तित्य) ।

अजिण न [अजिन] १ हरिण आदि पशु-
का चमड़ा (उत्त ५, दे ७, २७) । २ ति
जिसने राग-द्वेष का सर्वथा नाश नहीं किया
है वह (भग १५) । ३ जिन भगवान् के लक्ष-
सत्योपदेशक जैन साधु, 'अजिणा जिएमदल-
जिएण इवानितहं वागरेमाया' (शोध) ।

अजिण देखो अइन्न = अजीण (आव) ।

अजियधर पु [अजितधर] ग्याह छों में
आठना र्द्ध पुरुष (विचार ८७३) ।

अजिर न [अजिर] प्रांगण, चौक (रयण)

यच्च (उप पृ ५०, महा)। सकृ हिडिय (महा)। हेकृ. हिडिउं (महा)।

हिडग वि [हिण्डक] १ भ्रमण करनेवाला (पचा १८, ८)। २ चलनेवाला (अणु १२६)।

हिडण न [हिण्डन] १ परिभ्रमण, पर्यटन (पञ्चम ६७, १८, स ४६)। २ गमन, गति (उप १०१७)। ३ वि भ्रमण-शील (दे २, १०६)।

हिडि व्री [हिण्डि] परिभ्रमण, पर्यटन, 'वासुदेवाङ्गो हिडी राय-वसुभवाण वि। तारुण्येवि कह हुता न हुत जइ कम्मय (कर्म १६)।

हिडि पु [हिण्डिन्] रावण का एक सुभट (पञ्चम ५६, ३३)।

हिडिअ वि [हिण्डित] १ चला हुआ, चलित, गत (महा ३४)। जहाँ पर जाया गया हो वह, 'हिडिय असेस गाम' (महा ६१)। ३ न गति, गमन, विहार (णाय १, ६—पत्र १६५, श्लो २५४)।

हिडुअ पु [दे. हिण्डुक] आत्मा, जीव, जन्मान्तर माननेवाला आत्मा, हिन्दु (भग २०, २—पत्र ७७६)।

हिडोल न [दे] १ खेत में पशुओं को रोकने की आवाज। २ क्षेत्र की रक्षा का यन्त्र (दे ८, ६६)।

हिडोल देखो हिंदोल (स ५२१)।

हिडोलण न [दे] १ रत्नावली, रत्नमाला। २ क्षेत्र की रक्षा की आवाज, खेत में पशु आदि को रोकने का शब्द (दे ८, ३६)।

हिडोल्य देखो हिडोल (दे ८, ६६)।

हिडाल पु [हिन्ताल] बुल-विशेष (उप १०३१ टी, कुमा)।

हिद सक [ग्रह] स्वीकार करना, ग्रहण करना। हिदइ (प्राकृ ७०, धात्वा १५७)। कर्म. हिदिजइ (धात्वा १५७)। सकृ हिदिऊण (प्राकृ ७०, धात्वा १५७)।

हिंदोल सक [हिन्दोल्य] झूलना। वकृ हिंदोलअत (कप्पु)।

हिंदोल पु [हिन्दोल] हिडोला, झूलना, बोला (कप्पु)।

हिंदोल ग न [हिन्दोलन] झूलना, दोलन (कप्पु)।

हिंविअ न [दे] एक पैर से चलने की बाल-क्रीडा (दे ८, ६८)।

हिस सक [हिस] १ वध करना। २ पीडा करना। हिसइ, हिसई (आचा, पव १२१)। भुका हिंसिमु (आचा, पव १२१)। भवि. हिसिस्सइ, हिसिस्सति, हिसेही (पि ५१६, आचा, पव १२१)। वकृ हिंसमाण (आचा)। कृ. हिस, हिसियच्च (उप ६२५, परह १, १—पत्र ५, २, १—पत्र १००, उव)।

हिस वि [हिस] १ हिसा करनेवाला, हिसक (उत्त ७, ५, परह १, १—पत्र ५, विसे १७६३, पचा १, २३, उप ६२५, स ५०)। °पपदाण, °पपयाण न [°प्रदान] हिसा के साधन-भूत खड्ग आदि का दान (श्रौप, राज)।

हिंस° देखो हिसा (परह १, १—पत्र ५)। °पेहि वि [°प्रक्षिन्] हिसा को देखनेवाला (ठा ५, १—पत्र ३००)।

हिंसअ } वि [हिसक] हिसा करनेवाला
हिंसग } (भग, श्लो ७५२, उत्त ३६, २५६, उव. कुप्र २६)।

हिसण न [हिसन] हिसा 'अहिसण सच्च-जियाण धम्मो' (सत्त ४२)।

हिसा व्री [हिसा] १ वध, घात (उवा. महा, प्रासू १४३)। २ वध, बन्धन आदि से जीव को की जाती पीडा, हैरानी (ठा ४, १—पत्र १८८)।

हिसा व्री [हेपा] अश्व का शब्द, 'गयगजि हयहिंसं च तप्पुरओ केवि कुच्चता' (सुपा १६४)।

हिसिय वि [हिंसित] हिसा-प्राप्त (राज)। हिसिय न [हेपित] अश्व शब्द (पञ्चम ६, १८०, दस ३, १ टी)।

हिंसी व्री [हिंसी] लता-विशेष (गडड)।

हिंहु पु [दे] हिन्दू, हिन्दुस्तान का निवासी (पिंग)।

हिक्का व्री [दे] रजकी, वीकिन (दे ८, ६६)।

हिक्का व्री [हिक्का] रोग-विशेष, हिचकी (सुपा ४८६)।

हिक्कास पु [दे] पङ्क, काटा (दे ८, ६६)। हिक्किअ न [दे] हेपा-रव, अश्व-शब्द (दे ८, ६८)।

हिज्ज देखो हर = ह।

हिज्ज° देखो हा।

हिज्जा } अ [दे ह्यस] गत कल (षड्,
हिज्जो } दे ८, ६७, पाप्र, प्रयो १३, पि १३४)।

हिज्जो अ [दे] आगामी कल (दे ८, ६७)।

हिट्ट वि [दे] आकुल (दे ८, ६७)।

हिट्ट देखो हेट्ट (सुर ४, २२५, महा, सुपा ६८)।

हिट्ट देखो हट्ट = हृष्ट (उव, सम्मत ७५)।

हिट्टाहिड वि [दे] आकुल (दे ८, ६७)।

हिट्टिम देखो हेट्टिम (सिरि ७०८, मुज १०, ५ टी)।

हिट्टिल्ल देखो हेट्टिल्ल (सम ८७)।

हिडिंवि पु [हिडिंम्व] १ एक विद्याधर राजा (पञ्चम १०, २०)। २ एक राक्षस (वेर्यी १७७)। ३ देश-विशेष (पञ्चम ६८, ६५)।

हिडिवा व्री [हिडिंम्व] एक राक्षसी, हिडिंम्व राक्षस की बहिन (हे ४, २६६)।

हिडोलण्य देखो हिडोलण (दे ८, ७६)।

हिडु वि [दे] वामन, खर्व (दे ८, ६७)।

हिणिद वि [भणित] उक्त, कथित, 'खणपा-हुरिण्णा देअरजाआ ए सुहम कि ति दे ह- (हि)णिदा' (गा ६६३)।

हिणण सक [ग्रह] ग्रहण करना। हिणणइ (धात्वा १५७)।

हिणण (अप) देखो हीण (पिंग)।

°हिणण देखो भिणण (गा ५६३)।

हितअ } (पे) देखो हिअअ = हृदय (प्राप्र-
हितप } षड्, वाप्र १६, पि २५४, हे ४, ३१८, कुमा, प्राकृ १२४)।

हित्थ वि [दे] १ लज्जित (दे ८, ६७, धण ६)। २ त्रस्त, भय-भीत (दे ८, ६७, हे २, १३६, प्राप्र, गा ३८६, ७६३, सुर १६, ६१, कुमा)। ३ हिंसित, मारा हुआ, 'हित्थो वण हित्थो मे सत्तो, भणियं व न भणियं भोस' (वव १)।

हित्था व्री [दे] लज्जा, शरम (दे ८, ६७)।

अज्जिआ स्त्री [आर्यिका] १ मान्या, पूज्या स्त्री । २ राधवी, सन्यासिनी (सम ६५, पि ४४८) । ३ माता की माता (दस ७) । ४ पिता की माता (स २५५) ।

अज्जिआ वि [दे] दत्ता, दिया हुआ (वच १ टी) ।

अज्जिणण देखो अज्जणण (उप ६६४) ।

अज्जीव देखो अजीव, 'धम्माधम्मा पुण्णल, नाः कालो पच हुति अजीवा' (नव १०) ।

अज्ज (अप) अ [अद्य] आज (हे ४, ३४३, मदि, पिग) ।

अज्ज (श्री) देखो अज्ज = आर्य (नाट) ।

अज्जा (श्री) देखो अज्जा = आर्या (पि ६०२) ।

अज्जु पु [अज्जु] १ तीसरा पाण्डव (गाया १, ६) । २ वृक्ष-विशेष (गाया १, ६) । ३ गोशालक के एक दिक्कर (शिष्य) का नाम (भग १५) । ४ न. श्वेत सुवर्ण, नदि, सोना, 'सव्वज्जुणसुवरेणग्गमई' (श्रौप) । ५ नरा-विशेष (परएण १) । ६ अज्जुन वृक्ष का नाम (गाया १, ६) ।

अज्जुण [अज्जुण] १-६ ऊपर देखो । अज्जुण ७ एक माली का नाम (अत १८) ।

अज्जुणी [आर्या] सास, धरू (हे १, ७७) ।

अज्जोग देखो अजोग = अयोग (पच १) ।

अज्जोगि देखो अजोगि (पच १) ।

अज्जोरुह ने [दे] वनस्पति-विशेष (परएण १) ।

अज्जोरुह वि [अध्यक्ष] अधिष्ठाता (कप्पु) ।

अज्जु पु [दे] यह (पुरुष मनुष्य) (दे १, ५०) ।

अज्जुत देखो अज्जुत्त (सूत्र १, २, २, १२) ।

अज्जुत्त वि [दे] आगत, आया हुआ (दे १, १०) ।

अज्जुत्त न [अध्यात्म] १ आत्मा में, आत्म-अज्जुत्त सवधी, आत्म-विषयक, (उत्ता १, पाना) । २ मन में, मन सवधी, मनो-विषयक (ता १, १६, ४) । ३ मन, चित्त, ज्ञान (गायण' (दसनि १, २६) । ४ शुभ-त (प-रए सुसमाहि-अप्पा, सुत्तात्थ च धाराइ ते न निरुद्ध' (दस १०, १५) । ५ पु त्ना (श्री ७४५) । ६ जोग पु [योग]

आ-विशेष चित्त की एकाग्रता (सूत्र १, १६,

४) । ७ दोस पु [दोष] आध्यात्मिक दोष— क्रोध, मान, माया और लोभ (सूत्र १, ६) । ८ वृत्तिय वि [प्रत्ययिक] चित्त-हेतुक, मन से ही उत्पन्न होनेवाला शोक, चिन्ता आदि (सूत्र २, २, १६) । ९ विसोहि स्त्री [वशिद्धि] आत्म-शुद्धि (शेष ७४५) । १० सजुड वि [सवृत्त] मनो-निग्रही, मन को काबू में रखने-वाला (आचा) । ११ सुइ स्त्री [श्रुति] अध्यात्म-शास्त्र, आत्म-विद्या, योग-शास्त्र (परह २, १) । १२ सुद्धि स्त्री [शुद्धि] मन की शुद्धि (आच १) । १३ सोहि स्त्री [शुद्धि] मन-शुद्धि (आच १) ।

अज्जुत्थिय वि [आध्यात्मिक] आत्म-विषयक, आत्मा या मन से संबध रखनेवाला (विपा १, १, भग २, १) ।

अज्जुत्थीअ देखो अज्जुत्थिय (पव १२१) ।

अज्जुत्थिय वि [आध्यात्मिक] १ अध्यात्म का जानकार (अज्ज २) । २ अध्यात्म सम्बन्धी (सुत्तनि ६४) ।

अज्जुत्थिय वि [दे] प्रातिवेशिक, पड़ोसी (दे १, १७) ।

अज्जुत्थिय पुन [अध्ययन] १ शब्द, नाम (चद १) । २ पढना, अभ्यास (विसे) । ३ ग्रन्थ का एक अंश (विपा १, १) ।

अज्जुत्थियि वि [अध्ययनिन्] पढने वाला, अभ्यासी (विसे १४६५) ।

अज्जुत्थिय सक [अधि + आप्] पढाना, सीखाना । १ अज्जुत्थियि वि (विसे ३१६६) ।

अज्जुत्थिय सक [अध्यय + सो] विचार करना, चिन्तन करना । वक्तु अज्जुत्थियसत्त (मुपा ५६५) ।

अज्जुत्थियसण } न [अध्ययसान] चिन्तन, अज्जुत्थियसाण } विचार, आत्म-परिणाम, 'तो कुमरेण भणिय, मुणिएणव । रइसुहज्जुत्थियस-रुंपि । कि इयफल्य जायइ ?' (मुपा ५६६, प्रासू १०४, विपा १, २) ।

अज्जुत्थियसय पु [अध्ययसाय] विचार, आत्म-परिणाम, मानसिक सकल्प (आचा, कम्म ४, ८२) ।

अज्जुत्थियसिय वि [अध्ययसित] निश्चित, (धर्मसं ४२८) ।

अज्जुत्थियसिय वि [अध्ययसित] १ जिसका चिन्तन किया गया हो वह (श्रौप) । २ न चिन्तन, विचार (अणु) ।

अज्जुत्थियसिय न [दे] मुडा हुआ मुह (दे १, ४०) ।

अज्जुत्थियसिय वि [दे] देखा हुआ, दृष्ट (दे १, ३०) ।

अज्जुत्थियस सक [आ + क्रुश] आक्रोश करना, अभिशाप देना । अज्जुत्थियस (दे १, १३) ।

अज्जुत्थियस वि [आकृष्ट] जिस पर आक्रोश अज्जुत्थियस किया गया हो वह (दे १, १३) ।

अज्जुत्थियसिय वि [अध्ययिक] अत्यंत, अतिरिक्त (महा) ।

अज्जुत्थी [दे] १ असती, कुलटा । २ प्रकृत स्त्री । ३ नवोढा, दुल्हिन । ४ युवती स्त्री । यह (स्त्री) (दे १, ५०, गा न ३८, ८३, वजा ६४) ।

अज्जुत्थी सक [अधि + इ] अध्ययन करना अज्जुत्थी पढना । अज्जुत्थी (सुख २, १३) हेतु अज्जुत्थी (सुख २, १३) ।

अज्जुत्थीअ सक [अध्यापय] पढाना । कर्म अज्जुत्थीअ (सुख २, १३) ।

अज्जुत्थीअव्य वि [अध्ययव्य] पढने योग्य 'सुअं मे भविस्सइ ति अज्जुत्थीअव्य भवई' (दे ६, ४, ३) ।

अज्जुत्थी पु [अध्याय] १ पठन, अभ्यास (नाट) । २ ग्रन्थ का एक अंश (विसे १११ प्राप) ।

अज्जुत्थी पु [अध्यारुह] १ वृक्ष-विशेष । २ वृक्षों के ऊपर बढनेवाली बली या वृक्ष-वृक्ष (परएण १) ।

अज्जुत्थीरोव पु [अध्यारोप] आरोप, उपक (धर्मसं ३५२, ३५३) ।

अज्जुत्थीरोवण न [अध्यारोपण] १ आरोपण ऊपर चढाना । २ पूजना, प्रश्न करना (विं २६२८) ।

अज्जुत्थीरोह पु [अध्यारोह] देखो अज्जुत्थी (सूत्र २, ३, ७, १८, १६) ।

अज्जुत्थी देखो अज्जुत्थीअ = अध्यापय । अज्जुत्थी वेद (मुन २, १३) । वक्तु अज्जुत्थीअ (दे १२४) ।

अज्जुत्थीय देखो अज्जुत्थीय (धर्मसं १, ३०)

हिदि अ [हृदि] हृदय मे 'हिदि निरुद्धवाउव्व'
(विसे २२०)।

हिद्व वि [दे] जस्त, खिसका हुआ, खिसक
कर गिरा हुआ (पड्)।

हिम न [हिम] १ तुपार, आकाश से गिरता
जल कण (पात्र, आचा, से २, ११)। २
चन्दन, शीखण्ड (से २, ११)। ३ शीत,
ठही, जाडा (वृह १)। ४ वर्ष, जमा हुआ
जल (कण, जी ५)। ५ पु छठवी नरक-
पृषिवी का पहला नरकेन्द्रक—नरक-स्थान
(देवेन्द्र १२)। ६ ऋतु-विशेष, मार्गशीर्ष तथा
पौष का महीना (उप ७२८ टी)। ०कर पु
[०कर] चन्द्रमा, चांद (मुपा ५१)। ०गिरि
पुं [०गिरि] हिमाचल पर्वत (कुमा, भवि,
सण)। ०धाम पुं [०धामन्] वही (धम्म
६ टी)। ०नग पु [०नग] वही (उप ४
३४८)। ०यर देखो ०कर (पात्र)। ०व, ०वत
पुं [०वत्] १ वर्षपर पर्वत-विशेष, 'हिमवो
य महाहिमवो' (पउम १०२, १०५, उवा,
कण, इक)। २ हिमाचल पर्वत (पि ३६६)।
३ राजा अन्धकवृष्णि का एक पुत्र (अत ३)।
४ एक प्राचीन जैन मुनि, जो स्कन्दिलाचार्य
के शिष्य थे, 'हिमवतखमासमणे जदे' (एदि
५२)। ०वाय पु [०पात्] तुपार-पतन
(आचा)। ०सीगल पुं [०शीतल] कृष्ण
पुद्गल-विशेष (सुज २०)। ०सेल पु [०शैल]
हिमालय पर्वत (उप २११ टी)। ०गम पु
[०गम] ऋतु-विशेष, हेमन्त ऋतु (गा
३३०)। ०णी जी [०नी] हिम-समूह
(कुप्र ३६७)। ०यल पुं [०चल] हिमालय
पर्वत (मुपा ६३२)। ०लय पु [०लय]
वही अर्थ (पउम १०, १३, गउड)।

हिर देखो किर = किल (हे २, १८६, कुमा)।

हिरडी जी [दे] चोल पत्नी की मादा (दे ८,
६८)।

हिरण्य } न [हिरण्य] १ रजत, चांदी
हिरण्य } (जग, कण)। २ सुवर्ण, सोना
(आचा, कण)। ३ द्रव्य, धन (सूभ १, ३,
२, ८)। ०कर पु [०कर] एक देव्य (से
४, २०)। गदभ पु [०गभ] १ अस्त्र।
२ प्रथम जिन भगवान् (पउम १०६, १२),

'गदभद्विभस्स जस्स उ
हिरण्यवुट्ठी सककणा पडिया।
तेण हिरण्यगम्भो
जयम्मि उवगिणए उसभो।'
(पउम ३, ६८)।

हिरि अक [ही] लजित होता। हिरिआमि
(अभि २५५)।

हिरि° देखो हिरी (आया १, १६—पत्र २१७,
पड्)। ०म वि [०मत्] लजालु शरमिन्दा
(उत्त ११, १३, ३२, १०३, पिड ५२६)।
०वेर पु [०वेर] वृण-विशेष, सुगन्धवाला
(पात्र, उत्तनि ३)।

हिरि पु [हिरि] भालूक भालू का शब्द (पउम
४५)।

हिरिअ वि [हीत] लजित (हे २, १०४)।

हिरिआ जी [हीमा] लज्जा, शरम (उप
७०६, कुमा)।

हिरिव न [दे] पत्तल, सुद्र तलाव (दे ८,
६६)।

हिरिमथ पुं [दे] चना, अन्न-विशेष (दे ८,
७०)। देखो हरिमथ।

हिरिली जी [दे] कन्द विशेष (उत्त ३६,
६८)।

हिरिवग पु [दे] लण्ड, लट्टी (दे ८, ६३)।

हिरी जी [ही] १ लज्जा, शरम (आचा, हे
२, १०४)। २ महापद्म-हृद की अघिष्ठात्री
देवी (ठा २, ३—पत्र ७२)। ३ उत्तर
रुचक-पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी
देवी (ठा ८—पत्र ४३७)। ४ सत्पुरुष
नामक किंपुरुषेन्द्र की एक अन्न महिषी (ठा
४, १—पत्र २०४)। ५ महाहिमवान् पर्वत
का एक कूट (इक)। ६ देवप्रतिमा-विशेष
(आया १, १ टी—पत्र ४३)।

हिरीअ देखो हिरिअ (हे २, १०४)।

हिरै देखो हरे (पात्र)।

हिला जी [दे] भुगा, हाथ,

'बयामो पेच्छता घणदलपावरण-
साह्णनिहिलाभो।'
(पुट्ठी० च०-शातिमुरि)

साह्णनिहिलाभो ति ग.दाभुता।

(पुट्ठी० च० प्रथमभ, सर्वेत्कार रत्नप्रामृत्त)।

हिला } जी [दे] वालुका, बालू, रेतो (दे ८,
हिला } ६६)।

हिरिय पुजी [दे] कीट-विशेष, नीन्द्रिय जनु
की एक जाति (परण १—पत्र ४५)।

हिरिरी जी [दे] मछली पकडने का बाल-
विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

हिरिलूरी जी [दे] लहरी, तरङ्ग (दे ८, ६७)।

हिरोलण न [दे] खेत मे पशुओ को रोकने
की आवाज (दे ८, ६६)।

हिव देखो ह्य = भू। हिवद (हे ४, २३८)।

हिसोहिसा जी [दे] स्पर्धा (दे ८, ६९)।

ही अ [ही] इन अर्थों का सूचक शब्द—
१ विस्मय, आश्चर्य (सिरि ४७३)। २ दुःख
(उप ५६७ टी)। ३ विपाद, खेद। ४ शोक,
दिलगोरी (आ १६, कुप्र ४३६, कुमा, रभा,
मन ३७)। ५ वितर्क (सिरि २६८)। ६
कन्दर्प का अतिरेक। ७ प्रशान्त भाव का
अतिशय (अणु १३६)।

ही देखो हिरी (विसे २६०३)। ०म वि [०मत्]
लज्जारील, लज्जालु (सुअ १, २, २, १८)।

हीं अ [ही] मयाक्षर-विशेष, मायावीज
(सिरि १२१०)।

हीण वि [हीन] १ न्यून, कम, अपूर्ण (उवा,
आया १, ४—पत्र १६०)। २ रहित,
वजित, 'ह्य नाण कियाहीण' (हे २, १०४)।
३ अथम, हलवा। ४ निन्द्य, निन्दनीय
(प्रासू १२५, उप ७२८ टी)। ५ पु,
प्रतिवादि-विशेष (हे १, १०३)। ०जाइए
वि [०जातिक] अथम जाति का, नीच
जाति का (उप ७२८ टी)। ०वादिन्
[०वादिन्] वादि विशेष (मुपा २८२)।

हीण वि [हीण] भीत (विपा १, २ टी—
पत्र २८)।

हीमाणहे } (शी) अ १ विस्मय, आश्चर्य।
हीमादिके } २ निर्वेद (हे ४, २८२, कुमा,
प्राह ६८, मुच्छ २०२, २०६)।

हीयमाण देखो हा।

हीयमाणग } न [हीयमाणक] अर्थात्
हीयमाणग } वा एक भेद, प्रथम धन हा-
जाता अर्थविज्ञान (ठा ६—पत्र १००,
एदि)।

जिसकी आवश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो वह, 'अट्टेण जस्स कण्ण सजात एस अट्टजाओ य' (वव २)। 'जाय वि [°याच] धनार्थी, धन की चाहवाला (वव २)। 'सइय वि [°शक्तिक] सौ अर्थवाला, जिसका सौ अर्थ हो सके ऐसा (वचन आदि) (ज २)। 'सेण प [°सेन] देखो अट्टिसेण, देखो अत्थ=अर्थ।

अट्ट वि व [अष्टन्] सख्या-विशेष, आठ, ८ (जी ४१)। 'चत्ताल वि [°चत्वारिंश] अठतालीसवाँ (पउम ४८, १२६)। 'चत्तालीस वि [°चत्वारिंशत्] अठतालीस (पि ४४५)। 'ट्टमिया ली [°अष्टमिका] जैन साधुओं का ६४ दिन का एक व्रत, प्रतिमा-विशेष (सम ७७)। 'तालीस वि [°चत्वारिंशत्] अठतालीस (नाट)। 'तीस वि [°त्रिंशत्] सख्या-विशेष, अठतीस (सम ६५, पि ४४२, ४४५)। 'तीसइम वि [°त्रिंश] अठतीसवाँ (पउम ३८, ५८)। 'त्तरि ली [°सप्तति] अठत्तर, ७८ की सख्या (पि ४४६)। 'तीस वि [°त्रिंशत्] अठतीस (सुपा ६५९, पि ४४५)। 'दस वि [°दशन्] अठारह, १८ (सति ३)। 'दसुत्तरसय वि [°दशोत्तरशत्] एक सौ अठारहवाँ (पउम ११८, १२०)। 'दह वि [°दशन्] अठारह, १८ की सख्या (पिग)। 'पएसिय वि [°प्रदेशिक] आठ अवयव वाला (ठा १०)। 'पया ली [°पदा] एक वृत्त, छन्द-विशेष (पिग)। 'पाहरिअ वि [°प्राहरिक] आठ प्रहर सबकी (सुर १५, २१८)। 'भाइया ली [°भागिका] तरल वस्तु नापने का बत्तीस पत्तो का एक परिमाण (अणु)। 'म न [°म] तैला, लगातार तीन दिनों का उपवास (सुर ४, ५५)। 'मगल पुन [°मङ्गल] स्वस्तिक आदि आठ मांगलिक वस्तु (राय)। 'मभक्त पुन [°मभक्त] तैला, लगातार तीन दिनों का उपवास (राया १, १)। 'मभक्तिय वि [°मभक्तिक] तैला करनेवाला (विपा २, १)। 'मी ली [°मी] तिथि-विशेष, अष्टमी (विपा २, १)। 'मुत्ति पु [°मूर्ति] महादेव, शिव (ठा ६)। 'याल वि [°चत्वारिंशत्] अठतालीस (भवि)। 'वन्न वि [°पञ्चाशत्] सख्या-विशेष, अट्टावन, ५८ (कम्म १, ३२)। 'वारिस, 'वारिस वि [°वार्षिक] आठ वर्ष

की उम्र का (सुर २, १४६, ८, १०१)। 'विह वि [°विध] आठ प्रकार का (जी २४)। 'वीस लीन [°विंशति] अट्टाईस (कम्म १, ५)। 'सट्टि ली [°षष्टि] सख्या-विशेष, अठमठ (पि ४४२-६)। 'समइय वि [°सामयिक] जिसकी अवधि आठ 'समय' की हो वह (ओप)। 'सय न [°शत] एक सौ आठ, १०८ (ठा १०)। 'सहस्स न [°सहस्र] एक हजार और आठ (ओप)। 'सामइय देखो 'समइय (ठा ८)। 'सिर वि [°शिरस्] 'सिर' अष्ट-कोण, आठ कोण वाला (ओप)। 'सेण पुं [°सेन] देखो अट्टिसेण। 'हत्तर वि [°सप्ततितम] अठत्तरवा (पउम ७८, ५७)। 'हत्तरि ली [°सप्तति] अठत्तर की सख्या ७८ (सम ८६)। 'हा अ [°धा] आठ प्रकार का (पि ४५१)। 'अट्ट न [°काष्ठ] काष्ठ, लकड़ी (प्रयौ ७४)। अट्टग वि [अष्टाङ्ग] जिसका आठ अंग हो वह। 'णिमित्त न [°निमित्त] वह शास्त्र जिसमें भूमि, स्वप्न, शरीर, स्वर आदि आठ विषयों के फलाफल का प्रतिपादन हो (सूत्र १, १२)। 'महाणिमित्त न [°महानिमित्त] अनन्तर-उक्त अर्थ (कप्प)। अट्टंस वि [अष्टास] अष्ट-कोण (सूत्र २, १, १५)। अट्टदिट्ठि ली [अष्टदृष्टि] योग की आठ दृष्टियाँ, वे ये हैं—मित्रा, तारा, वला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा (सिरि ६२३)। अट्टय न [अष्टक] आठ का समूह (वव १)। अट्टा ली [अष्ट] १ मुष्टि, 'चउहि अट्टाहि लोपं करेइ' (ज २, स १८२)। २ मुट्टीभर चीज (पचव २)। अट्टा ली [आस्था] श्रद्धा, विश्वास (सूत्र २, १)। अट्टा ली [अर्थ] लिए, वान्ते, 'तइया य मणी दिव्वो, समप्पिओ जीवरक्खट्टा' (सुर ६, ६, ठा ५, २)। 'दड पु [°दण्ड] काय के लिए की गई हिंसा (ठा ५, २)। अट्टाइस वि [अष्टाविंश] अट्टाईसवाँ (पिग)। अट्टाइस } लीन [अष्टाविंशति] सख्या-अट्टाईस } विशेष, अट्टाईस (पिग, पि ४४२)। अट्टाण न [अस्थान] १ अयोग्य स्थान (ठा ६, विमे ८४५)। २ कुम्भित म्यान, वेश्या का मुहल्ला बगैरह (वव २)। ३ अयोग्य, नैरव्याजवी

'अट्टाणमिय कुसला वयति, दणेण जे सिद्धिमुया हरति' (सूत्र १, ७)। अट्टाण न [आस्थान] समा, समा-गृह (ठा ५, १)। अट्टाणउइ ली [अष्टानवति] अठानवे, ६८ (सम ६६)। अट्टाणउय वि [अष्टानवत्] अठानवेवाँ, ६८वाँ (पउम ६८, ७८)। अट्टाणवइ देखो अट्टाणउइ (कुप्र २१६)। अट्टाणिय वि [अस्थानिक] अपान, अनायय 'अट्टाणिए होइ व्हू गुणाण, जेरणाणुषवाइ मुस वएजा' (सूत्र १, १३)। अट्टायमाण वक्क [अतिष्ठन्] नहीं बैठता हुआ (पचा १६)। अट्टार } वि व [अष्टादशन्] संख्या अट्टारस } विशेष, अठारह (पउम ३५, ७८, सति ९)। 'विह वि [°विध] अठारह प्रकार का (सम ३५)। अट्टारसग न [अष्टादशक] १ अठारह का समूह (पचा १४, ३)। २ वि जिसका मूल अठारह मुद्रा हो वह (पव १११)। अट्टारसम वि [अष्टादश] १ अठारहवाँ (पउम १८, ५८)। २ न लगातार आठ दिनों का उपवास (राया १, १)। अट्टारसिय वि [अष्टादशिक] अठारह वर्ष की उम्र का (वव ४)। अट्टारह } देखो अट्टार (पड, पिग)। अट्टाराह } अट्टावण } लीन [अष्टापञ्चाशत्] संख्या अट्टावन्न } विशेष, पचास और आठ, (पि २६५, सम ७४)। अट्टावन्न वि [अष्टापञ्चाश] अठानवाँ (पउम ५८, १६)। अट्टावय पु [अष्टापद] १ स्वनाम-न्याय पर्वत विशेष, बैलास (परह १, ४)। २ न जाति का जुआ (परह १, ४)। ३ दून-मन जिस पर जुआ खेला जाता है वह (परह १, ४)। ४ सुवर्ण, सोना (धण ८)। 'सेल [°शैल] १ भेरु-पर्वत। २ स्वनाम-न्याय पर्वत विशेष, जहाँ भगवान् ऋषभदेव निर्माण पाये, 'जम्मि तुमं अहिमित्तो, जणं न विपत्तं नपय पत्तो। ते अट्टावयमेला, गोमामना तिं कुमस्स' (धण ८)।

हीर देखो हर = हर (हे १, ५१, कुमा, पड्)।

हीर पु [हीर] १ विषम भग, असमान खेद (परण १—पत्र ३७)। २ वारिक कुत्सित वृण, कन्द आदि मे होती वारिक रेखा (जीव ३, ४, जो १२)। ३ पुन हीरा, मणि-विशेष (स २०२, सिरि ११८६, कप्पु)। ४ छन्द विशेष (पिग)। ५ दाढा का अग्र भाग (से ४, १४)।

हीर पुन [दे] १ सूई की तरह तीक्ष्ण सुँह वाला काष्ठ आदि पदार्थ (दे ८, ७०, कस)। २ भस्म (दे ८, ७०)। ३ प्रात, अन्त भाग (गउड)।

हीरत देखो हर = ह।

हीरणा ली [दे] लाज, शरम (दे ८, ६७, पड्)।

हीरमाण देखो हर = ह।

हील सक [हेलय] १ अवज्ञा करना, तिरस्कार करना। २ निन्दा करना। ३ कदथन करना, पीडना। हीलइ (उव, सुख २, १६), हीलति (दस ६, १, २, प्रासू २६)। वक. हीलत (सट्टि ८६)। कवक हीलिज्जत, हीलिज्जमाण (उप पृ १३३, याया १, ८—पत्र १४४, प्रासू १६५)। कृ हीलणिज्ज (याया १, ३), हीलियच्च (परह २, १—पत्र १००, २, ५—पत्र १५०)।

हीलण लीन [हेलन] १ अवज्ञा, तिरस्कार। २ निन्दा (सुपा १००)। ली. णा (परह २, १—पत्र १००, श्रौप, उव, दस ६, १, ७, सट्टि १००)।

हीला ली [हेला] ऊपर देखो (उव, उप पृ २१६, उप १४२ टी)।

हीलिअ वि [हीलित] १ निन्दित। २ अपमानित, तिरस्कृत (सुख २, १७, श्रौप ५२६, कस, दस ६, १, ३)। ३ पीडित, कदथित (प्राजा २, १६, ३)।

हीलमण न [दे हेपित] हेपारव, अश्व—घोडे का शब्द (दे ८, ६८, हे ४, २५८)।

हीही (शौ) अ. विदूषक का हर्ष-सूचक हीहीभो) अर्थ (हे ४, २८५, कुमा, प्राकृ ६८, मोह ४१)।

हु अ [खल] इन अर्थों का द्योतक अव्यय— १ निश्चय (हे २, १६८, से १, १५, कुमा, प्राकृ ७८, प्रासू ५४)। २ ऊह, वितर्क (हे २, १६८, कुमा, प्राकृ ७८)। ३ संशय, सदेह (हे २, १६८, कुमा)। ४ सभावना (हे २, १६८, कुमा, प्राकृ ७८)। ५ विस्मय, आश्चर्य (हे २, १६८, कुमा)। ६ किन्तु, परन्तु (प्रासू १०१)। ७ अपि; भी; 'हु अविशदृत्वमि व ति' (वर्मसं १४० टी)। ८ वाक्य की शोभा (पचा ७, ३५)। ९ पादपूर्ति, पाद-पूरण (पउम ८, १४६, कुमा)।

हु } देखो हव = भू। हुअइ, हुएइ, हुति, हुअ } हुइरे, हुअइरे, हुण्ज, हुएण्ज, हुएइरे, हुएण्जइरे (पि ४७६, हे ४, ६१, पि ४५८, ४६६)। भवि. हुक्खामि, होक्खामि, हुक्ख (उत्त २, १२, सुख २, १२)। वक. हुत (हे ४, ६१, स ३४)।

हुअ देखो हुण—हु। हुअइ (प्राकृ ६६)। वक हुअंत (घात्वा १५७)।

हुअ वि [हुत] १ होमा हुआ, हवन किया हुआ (सुपा २६३, स ५५, प्राकृ ६६)। २ न होम, हवन (सुअ १, ७, १२, प्राकृ ६६)। ३ वह पु [वह] अग्नि, आग (गा २११, पाथ, याया १, १—पत्र ६३, गउड)। ४ स पु [शा] अग्नि (गउड, अण्क १५०, भवि, हि १३)। ५ सन पु [शान] वही अर्थ (भग, से ५, ५७, पाथ)।

हुअ देखो हुअ—भूत (प्राप्र, कुमा, भवि, सण)।

हुअग देखो भुअग, चन्दनलङ्घिण हुअगदूमिआ किणु दूमसि' (गा ६२६)।

हुअग देखो भुअग (गा ८०६, पि १८८)।

हु अ [हुम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ दान। २ पृच्छा, प्रश्न (हे २, १६७, प्राप्र, कुमा)। ३ निवारण (हे २, १६७, कुमा)। ४ निर्वारण (प्राप्र, रभा)। ५ स्वीकार (आ १२, कुप्र ३४५)। ६ हुङ्कार, 'हु' शब्द, 'हु करति वृअव' (सुपा ४६२)। ७ अनादर (सिरि १५३)।

हुअय पुं [दे] अजलि, प्रणाम (दे ८, ७१)।

हुकार पुं [हुङ्कार] १ अनुमति-प्रकाशक शब्द, हाँ (वित्से ५६५, से १०, २४ गा ३५६, आत्मानु ६)। २ 'हु' आवाज, 'हु' ऐसा शब्द (हे ४, ४२२, कप्पु, सुर १, २४६)। हुकारिय न [हुङ्कारित] 'हु' ऐसी की हुई आवाज (स ३७७)।

हुकरव पु [दे] अजलि, प्रणाम (दे ८, ७१)। हुड न [हुण्ड] १ शरीर की आकृति-विशेष, शरीर का वेदब अवयव (ठा ६—पत्र ३५७, सम ४४, १४६)। २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से शरीर का अवयव असंपूर्ण वेदब—प्रमाण शून्य अव्यवस्थित हो वह कर्म (कम्म १, ४०)। ३ वि वेदब अगवाला (विपा १, १—पत्र ५)। ४ वसपिणो लो [वसपिणो] वर्तमानहीन समय (विचार ५०३)।

हुडी ली [दे] घटा (पाथ)।

हुवउट्ट पुं [दे] वानस्पत्य तापस की एक जाति (श्रौप, भग ११, ६—पत्र ५१५, ५१६)।

हुंहुय अक [हुंहुं + कृ] 'हु' 'हु' आवाज करना। वक हु हुयंत (वेइय ४६०)।

हुंच देखो पहुच = प्र + भू।

हुट्ट देखो होट्ट (आचा, पि ८४, ३३८)।

हुड पु [दे] १ मेघ, मेढा (दे ८, ७०)। २ श्वान, कुत्ता (मुच्छ २५३)।

हुडुअ पु [दे] प्रवाह (दे ८, ७०)।

हुडुक्क पुत्री [दे हुडुक्क] वाद्य-विशेष (श्रौप, कप्पु, सण, विक्र ८७)। ली क्का (राथ, सुपा ५०, १७५, २४२)।

हुडुम पु [दे] पताका, ध्वजा (दे ८, ७०, पाथ)।

हुडु पुत्री [दे] होड, बाजी, परण, शत, दौंव। ली. हुडा (दे ८, ७०, सुपा २७६, पव ३८), हुडाहुडु सुपतेहि' (सम्मत १४३)। देखो होडु।

हुण सक [हु] होम करना। हुणइ (हे ४, २४१, भग ११, ६—पत्र ५१६, कुमा)। कर्म हुवइ, हुण्णज्जइ, हुण्णज्जए (हे ४, २४२, कुमा)। कवक हुणिज्जमाण (सुपा ६७)। सक हुणिज्जण, हुणेज्जण, हुणित्ता (पड्, भग ११, ६—पत्र ५१६)।

अड्ड देखो अड्ड = अर्ध (हे २, ४१, चद १०, सुर ६, १२६, महा)।

अड्ड वि [आडथ] १ सपन्न, वैभव-शाली, धनी (पात्र, उवा)। २ युक्त, सहित (पचा १२)। ३ पूर्ण, परिपूर्ण, 'विपुणमवि गुणड्ड' (प्रासू ७१)।

अड्डअक्कली ली [दे] देखो अट्टयक्कली (दे १, ४५)।

अड्डत्त वि [आरब्ध] शुरु किया हुआ, प्रारब्ध (से १३, ६)।

अड्डाड्ड वि [अर्धतृतीय] बाई (सम अड्डाड्ड) १०१, सुर १, ४४, भवि, विस १४०१)।

अड्डिड्ड वि [कृष्ट] लीचा हुआ (से ५, ७२)। अड्डुड्ड वि [अर्धचतुर्थ] साढे तीन, 'अड्डुड्डाड्ड सयाड्ड' (पि ४५०)।

अड्डेज्ज न [आडथत्व] धनीपन, श्रीमताई (ठा १०)।

अड्डेज्जा ली [आडथेज्या] श्रीमत से किया हुआ सत्कार (ठा १०)।

अड्डोरुग पु [अर्थोरु] जैन साध्वियों के पहनने का एक वस्त्र (शोष ३१५)।

अड्ड (अप) देखो अड्ड = अण्ट (पि ६७, ३०४, ४४२, ४४५)।

अड्डाड्ड (अप) श्रीन [अष्टाविंशति] सख्या-विशेष, अष्टाईस, २८ (पि ४४५)।

अड्डारसग देखो अट्टारसग (पिड ४०२)।

अड्डारसम देखो अट्टारसम (भग १८, याया १, १८)।

अण अ [अ, अन] देखो अं (हे २, १६०, से ११, ६४)।

अण सक [अण] १ आवाज करना। २ जाना। ३ जानना। ४ समझना। अणइ (विसे ३४४१)।

अण पु [अण] १ शब्द, आवाज। २ गमन, गति (विसे ३४४०)। ३ कपाय, क्रोध आदि आन्तर शत्रु (विसे १२८७)। ४ गाली, आक्रोश, अभिशाप (तदु)। ५ न पाप (परह १, १)। ६ कर्म (आचा)। ७ वि कुत्सित, खराब (विसे २७६७ टी)।

अण पु [अन] देखो अणताणुबंधि (कम्म २, ५, १४, २६)।

अण पु [अनस्] शकट, गाडी (धर्म २)।

अण देखो अण्ण = अन्य, 'अणहियमावि पिआण' (से ११, १६, २०)।

अण न [अण] १ करजा, ऋण (हे १, १४१)।

२ कर्म (उत्त १)। ३ धारग वि [धारक] करजदार, ऋणी (याया १, १७)। ४ बल वि [बल] उत्तमण, लेनदार (परह १, २)।

५ भजग वि [भज्जक] देउलिया (परह १, ३)।

अण देखो गण (से ६, ६६)।

अण देखो जण, 'अणण महिलाअण रमतस्स' (गा ४४), 'गुरुअणणवरवस पिअ कि (काप्र ६१), 'दासअणण' (अचु ३२)।

अण देखो तण (मे ६, ६६)।

अणअरद देखो अणवरय (नाट)।

अणइवर वि [अनतिवर] जिससे बढकर दूसरा न हो, सर्वोत्तम, 'अच्छराओ अणइवरसोमचारुक्खाओ' (श्रौप)।

अणइवुट्टि ली [अनतिवृष्टि] अवृष्टि, वर्षा का अभाव, 'हुमिअवडमडुम्मारीईअइवुट्टी अणइवुट्टी य' (सबोध २)।

अणईड वि [अनीति] ईति-रहित, शलभादिकृत उपद्रव से रहित 'अणईडपत्ता' (श्रौप)।

अणग पु [अनङ्ग] १ काम, विषयाभिलाष, रमणेच्छा (आ १६, आवा ६)। २ कामदेव, मन्मथ (गा २३३, गजड, कप्पु)। ३ एक राजकुमार, जो आनन्दपुर के राजा जीतारि का पुत्र था (गच्छ २)। ४ न विषय-सेवन के मुख्य अणो के श्रांतिरिक्त स्तन, कुक्षि, मुख आदि अण (ठा ५, २)। ५ वनावटी लिंग आदि (ठा ५, २)। ६ बारह अण-अणो मे भिन्न जैन शाख (विने ८४४)। ७ वि शरीर-रहित, अण-हीन, शूद्र, 'परहइ कह गु अणगो, कह गु हु विघति कोमुमा वाया' (गजड), 'पईवमअके पडई पयगो, रुवाणुरतो ह्वई अणगो' (मत्त ४८)। ८ घरिणी ली [गृहिणी] रति, कामदेव की पत्नी (मुपा ६६७)। ९ पडिसेविणी ली [प्रतिपेविणी] अमर्यादित रीति से विषय-सेवन करनेवाली ली (ठा ५, २)। १० पविट्ट न [प्रविट्ट] बारह अण-अणो से भिन्न जैन ग्रन्थ (विने ५०७)।

११ वाण पु [वाण] काम के वाण (गा ७४८)। १२ लवण पु [लवण] रामचन्द्रजी का

एक पुत्र, लव (पउम ६७, ६)। १३ सर पु [सर] काम के वाण (गा १०००)। १४ सेना ली [सेना] द्वारका की एक विख्यात गणिना (याया १, ५, १६)।

अणंत पु [अनन्त] चालू प्रवर्षाणि कास के चौदहवें तीर्थकर-देव, 'विमलमणत्त व निण' (पिड)। २ विष्णु, कृष्ण (पउम ५, १२२)। ३ शेष नाग (से ६, ८६)। ४ जिमें अनन्त जीव ही ऐसी वनस्पति, कन्द-मूल वगैरह (शोष ४१)। ५ न केवल-ज्ञान (याया १, ८)। ६ आकार (भग २०, २)। ७ वि नारा-नवि, शाश्वत (सूअ १, १, ४, परह १, ३)। ८ नि शीघ्र, अपरिमित, असंख्य से भी कहीं अधिक (विसे)। ९ प्रभूत, बहुत, विशेष (प्रासू २६, ठा ५, १)। १० काइय वि [कायिक] अनन्त जीववाली वनस्पति, कन्द-मूल आदि (धर्म २)। ११ काय पु [काय] कन्द-मूल आदि अनन्त जीववाली वनस्पति (परण १)। १२ लुत्तो अ [लुत्तस्] अनन्त बार (जी ४४)। १३ जीव पु [जीव] देखो काइय (परण १)। १४ जीविय वि [जीविक] देखो काइय (भग ८, ३)। १५ गण न [ज्ञान] केवल-ज्ञान (दस २)। १६ गणि वि [ज्ञानिन्] केवल-ज्ञानी, सर्वज्ञ (सूप १, ६)। १७ दसि वि [दशिन्] सर्वज्ञ (पउम ४८, १०५)। १८ पासि वि [पशिन्] ऐश्वर्य के वीरसे जिन-देव (तित्थ)। १९ मिस्सिया ली [मिश्रिका] सत्यमिश्र भाषा का एक नैद-जैसे अनन्तकाय से भिन्न प्रत्येक वनस्पति मे मिली हुई अनन्तकाय को भी अनन्तकाय कहल (परण ११)। २० मीसय न [मिश्रक] दसो मिस्सिया (ठा १०)। २१ रह पु [रथ] विद्या राजा दशरथ के बड़े भाई का नाम (पउम २३, १०१)। २२ विजय पु [विजय] मलनेत्र २४ वे और ऐश्वर्य क्षेत्र के वीरसे भावी धर्म कर का नाम (सम १४८)। २३ वारिय वि [वीर्य] १ अनन्त बलवाला। २ पु एक केवलज्ञानी मुनि का नाम (पउम १, १५८)। ३ एक ऋषि, जो कातवीर्य के पिता थे (मत्त १)। ४ अस्तलेय के एक भागी वीरवार का नाम (ती २१)। ५ ससारिय वि [ससारिक] अनन्त बल तब ससार मे जन्म-मरण चरने वाला (उत्त ३८४)। ६ सेण पु [सेन] १ वीर

हुणण न [ह्यन] होम (सुपा ६३) ।
हुणिअ देखो हुअ = हुत (सुपा २१७, मोह १०७) ।
हुत्त वि [दे] अभिमुख, समुख (दे ८, ७०, हे २, १५८, गउड, भवि) ।
हुत्त देखो हूअ = हुत (हे २, ६६) ।
हुत्त देखो हूअ = भूत (गा २४५, ८६६) ।
हुमआ देखो भुमआ (गा ५०५, पि १८८) ।
हुर देखो फुर = स्फुर । वक्र 'कतीए हुरतीए' आदि (कुप ४२०) ।
हुरड पु खी [दे] तृण आदि से कुछ कुछ पकाया हुआ चना आदि धान्य, होला—होरहा (सुपा ३८६, ४७३) ।
हुरत्या भ्र [दे] बाहर (आचा १, ८, २, १, ३, २, १ ३, २, कस) ।
हुरुडी खी [दे] विपादिका, रोग विशेष (दे ८, ७१) ।
हुल सक [क्षिप्] फेंकना । हलइ (हे ४, १४३, पड) ।
हुल सक [भुज्] मार्जन करना, साफ करना । हुलइ (हे ४, १०५, पड) ।
हुलण वि [मार्जन] सफा करनेवाला (कुमा ६, ६८) ।
हुलण न [क्षेपण] फेंकना (कुमा) ।
हुलिअ वि [दे] १ शीघ्र, वेग युक्त, 'मह पवराहुलिए' (दे ८, ५६) । २ न शीघ्र, जल्दी, तुरत (परह १, १—पत्र १४, स ३५०, उप ७२८ टी) ।
हुलुभुलि खी [दे] कपट, धम्म (नाट—मुच्छ २८२) ।
हुलुखी खी [दे] प्रसव-परा, निकट भविष्य से प्रसव करनेवाली खी (दे ८, ७१) ।
हुलू देखो फुल = फुल (भवि) ।
हुव देखो हुण = हु । हुवइ (प्राक ६६) ।
हुव देखो ह्व = भू । हुवंति (हे ४, ६०, प्राप्र) । भूका ह्वीभ (कुमा ५, ८८) । भवि. हुविस्तति (पि ५२१) । वक्र हुवत, हुवमाण, हुवमाण (पड) । सक. हुविअ (नाट—धत ५७) ।
हुय (भम) 'गो हूअ = भूत (भवि) । हुय (भम) देखो हुअ = हुन (भवि) । हुय 'देगो हुण = हु ।

हुयवत देखो हुयवत = हुन = घाव् (से ६, ३४) ।
हुयस देखो ह्यस = ह्यस (आचा, श्रीप, सम्मत १६०) ।
हुहुअ पुन [हुहुक] देखो हूहुअ (अणु ६६, १७६) ।
हुहुअग पुन [हुहुकाङ्ग] देखो हूहुअग (अणु ६६, १७६) ।
हुहुक भ्र [हुहुक] अनुकरण-शब्द-विशेष, 'हुहुक' ऐसा शब्द (हे ४, ४२३, कुमा) ।
हूअ देखो भूअ = भूत (हे ४, ६४, कुमा, आ १४, १६, महा, सार्ध १०५) ।
हूअ वि [हूत] आहूत, आकारित (हे २, ६६) ।
हूअ देखो हुअ = हुत, 'भन्ने पचसरो पुरा भगवया ईसिए ह्यो सय, कोहुवेण सम्यासुगोवि सबणुहुडोवि णित्तानले' (रभा २५) ।
हूण पु [हूण] १ एक अनार्य देश । २ वि उसका निवासी मनुष्य (परह १, १—पत्र १४, कुमा) ।
हूण देखो हीण = हीन (हे १, १०३, पड) ।
हूम पु [दे] लोहार (दे ८, ७१) ।
हूसण देखो भूसण (गा ६५५, पि १८८) ।
हूहु पुं [हूहु] गन्धर्व देवों की जाति (धर्मवि ४८, सुपा ५६) ।
हूहुअ पुन-[हूहुक] सख्या-विशेष, 'हूहुअग' को चौरासी लाख से गुनने पर जो सटपा लव हो वह (ठा २, ४—पत्र ८६, अणु २४७) ।
हूहुअग पुन [हूहुनाङ्ग] सख्या-विशेष, 'अवव' को चौरासी लाख से गुनने पर जो सख्या लव हो वह (ठा २, ४—पत्र ८६, अणु २४७) ।
है भ्र [हे] हा अथा—१ सूचक श्रवण—१ सवोधन । २ आह्वान । ३ अनुया, ईर्ष्या (हे २, २१७ टि, पि ७१, ४०३, भवि) ।
हैअ देखो हा = हा ।
हैअ देखो भैअ = भैद (गा ८२७) ।
हैअगणीण न [ह्यङ्गणीण] १ नवनील, मनलन । २ राजा घी (नाट—साहित्य २३६) ।
हैआल पु [दे] रस्त विशेष ने विषय साप

के फण की तरह किए हुए हाथ से निवारण (दे ८, ७२) ।
हेउ पुं [हेतु] १ कारण, निमित्त, 'हेज्ज' (यम २६, उवा, परह २, २—पत्र ११४, कम्, गउड, जी ५१, महा पि ३५८) । २ अनुमान वाक्य, पचावयव वाक्य (उत्त ६, ८, सुव ६, ८) । ३ अनुमान का साधन (धर्मस ७७, ठ ४, ४ टी—पत्र २८३) । ४ अणु (अणु) ।
'वाय पु [वाव] १ वारहवाँ जैन अर्थ ग्रन्थ दृष्टिवाद (ठा १०—पत्र ४६१) । २ तर्कवाद, युक्तिवाद (सम्म १४०, १४२) ।
हेउअ वि [हेतुक] १ हेतुवाद-गो माननेवाला, तर्कवादी, 'जो हेउवायपक्कम्मिहेउओ प्राणे य आगमिओ' (सम्म १४२, उवर १५१) । २ हेतु का, हेतु से सज्ज रखनेवाला । श्री. 'उई' (विसे ५२२) ।
हेच } देखो हा = हा ।
हेच्चाण }
हेज्ज देखो हर = ह ।
हेड्डी खी [अधस] नीचे, गुजराती में 'हो' 'नगोहेडेड्डी' (सुर १, २०५, पि १०७, हे २, १४१, कुमा, गउड), 'हेड्डी' (महा) खी 'डा' (श्रीप, महा, पि १०७, ११४) ।
'मुह वि [मुख] अणु-सुव, जिनने मुह नीचा किया हो वह (गिपा १, ६—पत्र ६८, दे १, ६३, भवि) । 'अयवि वि [अयवी] महाराष्ट्र देश का निवासी, महारु—महारा (पिठ ६१६) ।
हेड्डिम } वि [अवस्तन] नीचे का (व्य हेड्डिल १६, ४१, भम, हे २, १०३, यम ८७, पड, श्रीप) ।
हेडा खी [दे] १ घटा, समूह (सुपा ३८६, ५३०) । २ घट्ट आदि निने वा त्याग भलाडा (धम्म १२ टी) ।
हेडिस } (प्रती) देगो परिण (पि १२१) ।
हेडिम }
हेपिअ वि [दे] उन्नत, ऊंचा (पड) ।
हेम न [हेम] १ मुखर्षी सोना (पाम, जैन परिमाण) । ४ पुं राजा घोडा । ५ वि. पठित (सुनि ७) । ६ पुं एत विदपर राजा (पठन १०, २१) । 'व्य पु [व्य] १-२ विश्व की उत्तरी इलाक़ों के क

अणपप वि [अनल्प] अधिक, बहुत (श्रौप) ।
 अणपप पु [अनात्मन्] निज से भिन्न, आत्मा से परे (पञ्चम ३७, २२) । °ज्ज वि [°ज्ज] १ निर्बोध, मूर्ख । २ पागल, भूताविष्ट, पराधीन (निव्व १) । °वसग वि [°वश] परवश, पराधीन (पञ्चम ३७, २२) ।
 अणपप पु [दे] खड्ग, तलवार (दे १, १२) ।
 अणपपिय वि [अनर्पित] १ नहीं दिया हुआ । २ साधारण, सामान्य, अविशेषित (ठा १०) । °णय पु [°णय] सामान्य-ग्राही पक्ष (विसे) ।
 अणपभन्तर, वि [अनभ्यन्तर] भीतरी तत्त्व को नहीं जाननेवाला, रहस्य-अनभिन्न, 'अणुभन्तरा खु अम्हे मदरागदस्स वुत्ततस्स' (अभि ६१) ।
 अणभिग्गह न [अनभिग्रह] 'सर्वे देवा वन्ता' इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक भेद (शा ६) ।
 अणभिग्गहिय न [अनभिग्रहिक] ऊपर देखो (ठा २, १) ।
 अणभिग्गहिय वि [अनभिग्रहीत] १ कदा-ग्रह-भूत्य (शा ६) । २ अस्वीकृत (उत्त २८) ।
 अणभिण्ण } वि [अनभिज्ञ] अज्ञान, निर्बोध
 अणभिन्न } (अभि १७४, सुपा १६८) ।
 अणभिल्लपप वि [अनभिल्लप्य] अनिर्वाचनीय, जो वचन से न कहा जा सके (लहुअ ७) ।
 अणमिस वि [अनिमिष] १ विकसित, खिला हुआ (सुर ३, १४३) । २ निमेष-रहित, पलक-वजित (सुपा ३५४) ।
 अणय पुं [अनय] अनीति, अन्याय (शा २७, स ५०१) ।
 अणयार देखो अणगार (पञ्चम ११, ७) ।
 अणरण पु [अनरण्य] साकेतपुर का एक राजा जो, पीछे से अपि हुआ था (पञ्चम १०, ८७) ।
 अणरह } वि [अनर्ह] अयोग्य, नालायक,
 अणरिह } (कुमा), 'रावि दिज्जति अणरिह्ति,
 अणरुह } अणरिहत्ते तु इमो होअ' (पञ्चम) ।
 अणरहू स्त्री [दे] नवीदा, दुसहिन (पङ्) ।
 अणरामय पु [दे] भरति, बेचैनी (दे १, ४५, भवि) ।

अणराय वि [अराजक] राज-शून्य, जिससे राजा न हो वह (बृह १) ।
 अणराह पु [दे] सिर में पहनी जाती रग-विरगी पट्टी (दे १, २४) ।
 अणरिक्क वि [दे] श्रवकाश-रहित, फुरसत-रहित (दे १, २०) । २ दधि, क्षीर आदि गोरस शोष्य (निव्व १६) ।
 अणरिह } वि [अनर्ह] अयोग्य, नालायक
 अणरुह } (राया १, १) ।
 अणल अ [अनलम्] असमर्थ (आचा २, ५, १, ७) ।
 अणल पु [अनल] १ अग्नि, आग (कुमा) । २ वि असमर्थ । ३ अयोग्य, 'अणलो अपच-लोत्ति य होति अजोगो व एगट्टा' (निव्व ११) ।
 अणव वि [अणवत्] १ करजदार । पु दिवस का छद्मोसर्वा मुहूर्त (चद) ।
 अणवकय वि [अनपकृत] जिसका अपकार न किया गया हो वह (उव) ।
 अणवगल्ल वि [अनवगलान] ग्लानि-रहित, निरोग, 'सट्टस्स अणवगल्लस्स, निस्सकिट्टस्स, जतुण एणे कसासनीसासे एस पाणुत्ति वुच्चह' (ठा २, ४) ।
 अणवच्च वि [अनपत्य] सन्तान-रहित, निर्वास (सुपा २५६) ।
 अणवज्ज न [अनवज्य] १ पाप का अभाव, कर्म का अभाव (सुस १, १, २) । २ वि निर्दोष, निष्पाप (पङ्) ।
 अणवज्ज वि [अणवज्य] ऊपर देखो (विसे) ।
 अणवट्टपप वि [अनवस्थाप्य] १ जिसको फिरसे दीक्षा न दी जा सके ऐसा गुरु अपराध करनेवाला (बृह ४) । २ न गुरु प्रामथित का एक भेद (ठा ३, ४) ।
 अणवट्टिय वि [अनवस्थित] १ अव्यवस्थित, अनियमित (प्रासू १३७, सुर ४, ७६) । २ चंचल, अस्थिर, 'अणवट्टिय च चित्त' (सुर १२, १३८) । ३ पत्य-विशेष, नाप-विशेष (कम्म ४, ७३) ।
 अणवणिय पु [अणपन्निक, अणपणिक] वानव्यतर देवों को एक जानि (पणह १, ४, भग १०, २) ।

अणवत्य वि [अनवस्थ] अव्यवस्थित, अनियमित, असमजस (दे १, १३६) ।
 अणवत्था स्त्री [अनवस्था] १ अतलाक अभाव (उव) । २ एक तर्क-दोष (विसे) । ३ अव्यवस्था, 'जएणी जायइ जाया, जए माया पिया य पुत्तो य । अणवत्था संभं. कम्मवसा सव्वजीवाए' (पिदे १०७) ।
 अणवदग्ग वि [दे] १ अन्त, अन्तिम निस्तीम (भग १, १) । २ अविनाशी (सु २, ५) ।
 अणवद् वि [अनवद्य] निष्पाप, निर्दोष, रु (प्राक् २१) ।
 अणवन्निय देखो अणवणिय (श्रौप) ।
 अणवयग्ग देखो अणवदग्ग (सम १२५, १२ १, ३, प्राप) ।
 अणवयमाण वक्क [अनपवदत्] १ फा वाद नहीं करता हुआ । २ सत्यवादी (शा ३) ।
 अणवरय वि [अनवरत] १ सतत, तिल्ल अविच्छिन्न । २ न सदा, हमेशा (भा २६ ६) ।
 अणवराइस्स (अप) वि [अनन्यादृश] अ धारण, अद्वितीय (कुमा) ।
 अणवसर वि [अनवसर] आकस्मिक, अनित्य (पात्र) ।
 अणवाह वि [अवाध] बाधा-रहित, निव्व (सुपा ६८) ।
 अणवेक्खिय वि [अनपेक्षित] अनित्य जिमकी परवाह न हो ।
 अणवेक्खिय वि [अनवेचित] १ न देखा हुआ । २ अनिचारित, नहीं सोचा हुआ । °कारि वि [°कारिन्] साहसिक । °कारि स्त्री [°कारिता] साहम कर्म (उप ७६८ ३) ।
 अणसण न [अनशन] आहार का त्याग, अ नाम (सम ११६) ।
 अणसिय वि [अनशित] उपोषित (अवम) ।
 अणह वि [अनच] निर्दोष, पवित्र (प्रा २ २७२, ने ६, ३) ।
 अणह वि [दे] अज्ञान, अज्ञान-रहित, अ शून्य (दे १, १३, सुपा ६, ३३, सए) ।

सुप्रसिद्ध जैन आचार्य तथा ग्रन्थकार (दे न, ७७, सुपा ६५८) । ३ विक्रम की पनरहवी शताब्दी का एक जैन मुनि (सिरि १३४१) ।
 °जाल न [°जाल] सुवर्ण की माला (श्रौप) ।
 °तिलय पु [°तिलरु] विक्रम की चौदहवी शताब्दी का एक जैनाचार्य (सिरि १३४०) ।
 °पुर न [°पुर] एक विद्याधर-नगर (इक) ।
 °मय वि [°मय] सोने का बना हुआ (सुपा ८८) ।
 °महिहर पु [°महिधर] मेघ पर्वत (गडड) ।
 °मालिगी स्त्री [°मालिनी] एक दिक्कुमारी देवी (इक) ।
 °व पु [°वन्] फाल्गुन मास (सुज १०, १६) ।
 °विमल पु [°विमल] एक जैन आचार्य (कुम्मा ३५) ।
 °भ पु [°भ] चौथी नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान (निर १, १) ।

हेमत पु [हेमन्त] १ ऋतु-विशेष मगसिर या अग्रहन तथा पोस या पूस महिना (पाग्र, आचा, कप्प कुमा) । २ शीतकाल (दम ३, १२) ।

हेमत वि [हेमन्त] हेमन्त ऋतु मे उत्पन्न (सुज १२—पत्र २१६) ।

हेमन्तिअ वि [हेमन्तिक] ऊपर देखो (कप्प, श्रौप, गा ६६, राय ३८) ।

हेमग वि [हेमक] हिम का, हिम-सबन्धी (ठा ४ ४—पत्र २८७) ।

हेमवइ } पुन [हेमवत] १ वर्ष विशेष, क्षेत्र-
 हेमवय } विशेष (इक, सम १२, ज ४—पत्र २६६, ३००, ठा २, ३ टी—पत्र ६७, पत्रम १०२, १०६) । २ हिमवत पर्वत का एक शिखर । ३ कूट-विशेष (इक) । ४ वि हिमवत पर्वत का (राय ७४, श्रौप) । ५ पु हेमवत क्षेत्र का अघिष्ठाता देव (ज ४—पत्र ३००) ।

हेम्म देखो हेम (सक्ति १७) ।

हेर सक [दे] १ देखना, निरीक्षण करना । २ रोजना, अन्वेषण करना । वक्रु हेरत (पिग) । सक्रु हेरिऊण (धर्मवि ५४) ।

हेरव पु [हे] १ महिप, भैंसा । २ डिरीडम, वाद्य विशेष (दे न, ७६) ।

हेरणगय पुंन [हेरणयवन] १ वर्ष-विशेष, एक युगलिङ्ग-ज्येष्ठ (इक, पत्रम १०२, १०६) । २ र्शाम पर्वत का एक शिखर । ३ शिखरी पर्वत का एक शिखर (इक २१८) ।

हेरणिअ पु [हेरणियक] सुवर्णकार (उप पृ २१०) ।

हेरन्नवय देखो हेरणवय (ठा २, ३—पत्र ६७, ७६) ।

हेरिअ पु [हेरिक] गुप्त चर, जासूस (सुपा ४६४, ५८६) ।

हेरिंवि पु [दे हेरिंवि] विनायक, गणेश (दे न, ७२, षड्) ।

हेरुयाल सक [दे] क्रुद्ध करना, गुस्सा उपनाना । हेरुयालति (णया १, ८—पत्र १४४) ।

हेला स्त्री [हेला] १ स्त्री की शृङ्गार-सबन्धी चेटा-विशेष (पाग्र) । २ अनादर (पाग्र, से १, ५५) । ३ अनायास, अल्प प्रयास, सहलाई, सरलता (से १, ५५, कप्प, प्रवि ११, पि ३७५) ।

हेला स्त्री [दे हेला] वेग, शीघ्रता (दे न, ७१, कप्प, प्रवि ११, पि ३७५) ।

हेलिय पु [हेलिक] एक तरह की मछली (जीव १ टी—पत्र ३६) ।

हेलुअ न [दे] क्षुत्, छीक (दे न, ७२) ।

हेलुका स्त्री [दे] हिक्का, हिचकी (दे न, ७२) ।

हेल्लि (अप) अ [हेले] सखी का आमन्त्रण, हे सखि (हे ४, ४२२, ३७६, पि १०७) ।

हेव (अशो) देखो हेव (पि ३३६) ।

हेवाग पु [हेवाक] स्वभाव, आदत (राज) ।

हेसमण वि [दे] उन्नत, ऊँचा (षड्) ।

हेसा स्त्री [हेषा] अश्व-शब्द (सुपा २८८, आ २७) ।

हेसिअ न [हेपित] ऊपर देखो (दे न, ६८, पत्रम ५४, ३०, श्रौप, महा, भवि) ।

हेसिअ न [दे हेपित] रसित, चीत्कार (षड्) ।

हेहभूअ वि [दे] गुण-दोष के ज्ञान से रहित और निर्दम्भ, अज्ञ किन्तु निखालस (वव १) ।

हेहय पु [हेहय] १ एक राजा (राज) । २ °डिंय पु [°डिंय] एक विद्याधर राजा (पत्रम १०, २०) ।

हो देखो हव = भू । होइ, होअइ, होअए, होएइ, होति, होइरे, होअइरे (हे ४, ६०, षड्, कप्प, उव, महा, पि ४५८, ४७६) । होज, होजा, होएज, होएजा, होउ (हे ३,

१५६, १७७, भग, प्राप्र, पि ४६६) । भूका, होत्या, होहोअ (कप्प, प्राप्र) । भवि होहिइ, होहिंति, होहामि, होहिमि, होस्स, होस्सामि, होक्खइ, होक्ख (हे ३, १६६, १६७, १६६, प्राप्र, पि ५२१), होसइ (अप) (हे ४, ३८८) । कर्म होइजइ, होइजए, होईअइ (षड्, पि ४७६) । वक्रु, होंत, होमाण (हे ३, १८०, ४, ३५५, ३७२, कुमा, पि ४७६) । सक्रु होऊण, होऊण, होअऊण, होइऊण, हविय, होत्ता (गडड, पि ५८५, ५८६, कुमा) । हेकू होउ, होत्तए (महा, पि ४७५, कप्प) । कू होयउय (कप्प, महा, उव, प्रासू १६, ६१) ।

हो अ [हो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ विस्मय, आश्चर्य (पाग्र, नाट—मुच्छ ११२) । २ सन्वोधन, आमन्त्रण (सक्ति ४७, उप ५६७ टी) ।

होउ वि [होउ] होम-कर्ता (गा ७२७) ।

होंड देखो हु ड (विचार ५०७) ।

होइ पु [ओइ] होठ, ओठ (आचा) ।

होइ देखो हुइ, 'तो ह छोडेमि होइयो' (सुपा २७७, २७८) ।

होइ पु [होइ] मोष, चोरी की वस्तु (णया १, २—पत्र ८६, पिड ३८०) ।

होण देखो हूण = हूण (पव २७४, विचार ४३) ।

होत्तिय पुं [होत्रिक] १ ज्ञानप्रस्थ तापसी का एक वर्ग, अग्निहोत्रिक ज्ञानप्रस्थ (श्रौप, भग ११, ६—पत्र ५१५) । २ न. चुण-विशेष (परण १—पत्र ३३) ।

होम पु [होम] हवन, अग्नि मे मन्त्र-पूर्वक घृत आदि का प्रक्षेप (अभि १५६) ।

होम सक [होमय] होम करना । हेकू होमिउं (ती ८) ।

होमिअ वि [होमिन] हवन किया हुआ, 'अणत्थपडियकुक्खवहविहोमिओ' (स ७१४) ।

होरंभा स्त्री [होरम्भा] वाद्य-विशेष, महा-द्वका, बडा डोल (राय ४६) ।

होरण न [दे] वज्र, कपडा (दे न, ७२, गा ७७१) ।

अणायरणया स्त्री [अनाचरण] ऊपर देखो (सम ७१) ।
 अणायरिय देखो अणज्ज = अनार्यं (परह १, १, पञ्चम १४, ३०) ।
 अणायार देखो अणागार = अनाकार (विसे) ।
 अणायार पु [अनाचार] १ शास्त्र-निषिद्ध आचरण (स १८८) । २ गृहीत नियमों का जान-बूझ कर उल्लंघन करना, व्रत-भङ्ग (वव १) ।
 अणारिय देखो अणज्ज = अनार्यं (उवा) ।
 अणारिस वि [अनार्थ] जो ऋषि-प्रणीत न हो वह (पञ्चम ११, ८०) ।
 अणारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा (नाट) ।
 अणालत्त वि [अनालपित] अनुक्त, अकथित, नहीं बुलाया हुआ (उवा) ।
 अणालवय पु [अनालपक] मौन, नहीं बोलना (पात्र) ।
 अणाव सक [आ + नायय्] मगवाना, अणा-वेमि (सिरि १४६) ।
 अणावरण वि [अनावरण] १ आवरण-रहित । २ न केवल-ज्ञान (सम्म ७१) ।
 अणाविअ वि [अनायित] मगवाया हुआ (सिरि ६६, ७१८) ।
 अणाविट्ठि } स्त्री [अनावृष्टि] वर्षा का अभाव
 अणावुट्ठि } (पञ्चम २०, ८७, सम ६०) ।
 अणाविल वि [अनाविल] १ निर्मल, स्वच्छ (गज्ज) ।
 अणाससि वि [अनाशसिन्] अनिच्छु, निस्पृह (वृह १) ।
 अणासण देखो अणसण (सुप्र १, २, १, १४) ।
 अणासय पु [अनाश, °क] अनशन, भोजना-भाव, 'खारस्स लोणस्स अणासएण' (सुप्र १, ७, १३) ।
 अणासव वि [अनाश्रव] १ आश्रव-रहित । २ पु आश्रव का अभाव, सवर । ३ अहिंसा, दया (परह २, १) ।
 अणासिय वि [अनशित] भूखा (सुप्र १, ५, २) ।
 अणाह वि [अनाथ] २ शरण-रहित (निव्व ३) । २ स्वामि-रहित, मालिक-रहित । ३ रंक,

गरीव, बेचारा (राया १, ८) । ४ पु एक जैन मुनि (उत्त २०) ।
 अणाहार पु [अनाहार] एक दिन का उखास (सबोध ५८) ।
 अणाहि } वि [अनाधि, °क] मानसिक
 अगाहिय } पीडा से रहित (सि ३, ४४, पि ३६५) ।
 अणाहिट्ठि पु [अनाधृष्टि] एक अन्तकृद मुनि (अन्त ३) ।
 अणिइण देखो अणगिण (विचार २२) ।
 अणिइय वि [अनियत] १ अनियमित, अध्ये-वस्थित । २ पु. ससार (भग ६, ३३) ।
 अणिउच्चिय वि [अनिकुञ्चित] टेढा नहीं किया हुआ, सरल (गज्ज) ।
 अणिउत्त } देखो अइमुत्त (दे ५, ३८, हे
 अणिउत्तय } १, १७८, कुमा) ।
 अणिएय वि [अनियत] अनियमित, अप्रति-वद्ध, 'अखिले अगिदे अणिएयचारी, अथयकरे भिक्खू अणाविलपा' (सुप्र १, ७, २८) ।
 अणिडिय वि [अनिन्दित] १ जिसकी निन्दा न की गई हो वह, उत्तम (धर्म १) । २ पु किन्नर देव की एक जाति (परएण १) ।
 अणिदिय वि [अनिन्दिय] १ इन्द्रिय-रहित । २ पु मुक्त जीव । ३ केवलज्ञानी (ठा १०) ।
 ४ वि अतीन्द्रिय, जो इन्द्रियों से जाना न जा सके, 'नय विज्जइ तरगहणे लिगपि अणियदियत-एणो' (सुर १२, ४८, स १६८, विसे १८६२) ।
 अणिदिया स्त्री [अनिन्दिता] ऊर्ध्व लोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारो देवी (ठा ८) ।
 अणिक वि [अनेक] एक से ज्यादा (नव ४३) ।
 'वाइ वि [वादिन्] अक्रियावादी (ठा ८) ।
 अणिकिणी स्त्री [अनीकिनी] ऐसी सेना जिसमें २१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोड़े और १०६३५ प्यादें हो (पञ्चम ५६, ६) ।
 अणिकिस्वत्त वि [अनिच्छिन्न] नहीं छोड़ा हुआ, अपरित्यक्त, अविच्छिन्न, 'अणिकिस्वत्तेण तवोक्कम्मएण तजमेण तवसा अणिएण भावेमारो विहरइ' (उवा. शौप) ।
 अणिगण } देखो अगगिण (जीव ३, तम
 अणिगिण } १७) ।

अणिग्गह वि [अनिग्रह] स्वच्छन्द, प्रसन्न (परह १, २) ।
 अणिच्च वि [अनित्य] नश्वर, अस्थायी (म २४, प्रासू ६५) । 'भावणा स्त्री [भावना] सासारिक पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन (पव ६७) । 'णुप्पेहा स्त्री [णुप्पेहा] देखो पूर्वोक्त अर्थ (ठा ४, १) ।
 अणिट्ठि वि [अनिष्ट] अशोभितकर, द्वेष्य (जो) ।
 अणिट्ठिय वि [अनिष्ठित] अतृप्त (गद) ।
 अणिण देखो अणिरिण (नाट) ।
 अणिदा स्त्री [दे अनिदा] १ विना स्वतन्त्र किये की गई हिंसा (भग १६, ५) । २ चित्त की विकलता । ३ ज्ञान का अभाव (भग १, ३) ।
 अणिमा पुत्री [अणिमन्] श्राद्ध क्रियाओं में एक सिद्धि, अत्यन्त छोटा वन जाने का शक्ति (पञ्चम ७ १३६) ।
 अणिमिस न [अणिमिष] फल विशेष (स ५, १, ७३) ।
 अणिमिस } वि [अणिमिष, °मेष] १ निन्द
 अणिमेस } शून्य (सुर ३, १७३) । २ इ
 मत्स्य, मछली (दस ५, १) । ३ देव, देव
 (वव १, आ १६) । 'नयण पु [नयन] देव,
 देवता (विसे ३४८६) ।
 अणिय न [अनीक] सैन्य, सशस्त्र (वप) ।
 अणिय न [अनृत] अमृत्य, मृत (ठा १०) ।
 अणिय न [दे] धार, अन्न-भाग (परह २३) ।
 अणिय वि [अनित्य] अस्थिर, अनित्य (जो) ।
 अणियट्ठ पु [अनियत] १ मोक्ष, मुक्ति (मत्त १, ५, १) । २ एक महाग्रह (ठा २, ३) ।
 अणियट्ठि वि [अनिवर्तिन्] १ निवृत्त होनेवाला, पीछे नहीं लौटनेवाला (शौप) । २ न शुरु-ध्यान का एक भेद (ठा ४, १) । ३ एक महाग्रह (षट् २०) । ४ आगामी वर्तमान काल में होनेवाले एक तीर्थंकर देव का नाम (सम १०४) ।
 अणियट्ठि वि [अनिवृत्ति] १ निवृत्ति का व्यावृत्ति-वर्जित (कर्म ८) । २ नाना-ध्यान (कर्म २) । 'करण न [करण] आत्मा का विशुद्ध परिणाम-विशेष (अन्त) । 'वाद्द न [वाद्द] १ नाना-ध्यान-प्रवृत्त नववैशुण्ण-ध्यान में प्रवृत्त जीव (मत्त ४) ।
 अणियण देखो अणगिण (जीव ३) ।

होरा श्री [होरा] १ खडी या खलो मे की हुई
रेखा (गा ४३५) । २ ज्योतिष शास्त्र मे उक्त
लग्न (मोह १०१) । ३ होराज्ञापक शास्त्र
(स ६०२) ।

होल पुत्री [दे] १ वाद्य-विशेष, होल वाएह
मे इत्य' (धर्मवि ४४), 'श्राद्धत मज्जपाए
वायावेइ होल' (सुख ३, १) । २ पक्षि-विशेष,

'होलाहगिद्धकुक्कुडहसवगाईसु सरणजाईसु ।
ज खुहवमेण खडा किमिमाई तेवि खामेमि'
(सा १३) ।

३ एक तरह की गाली, अपमान-सूचक शब्द—
मूखं, वेवकूफ (आचा २, ४, १, ६, ११,
दस ७, १४, १६) । 'वाय पु [वाद्] दुर्वचन
बोलना, गाली-प्रदान (सूत्र १, ६, २७) ।

होलिया श्री [होलिया] होली, फागुन मान
का पर्व-विशेष (सङ्घ ७८ वी) ।

होस° देखो हो = भू ।

हउ देखो दह (पिड ८४, पि ३६६ ए) ।

हस्स देखो रहस्स = हस्स (पि ३५४) ।

हास देखो हास = ह्याम (एदि २०६ वी) ।

॥ इअ पाइअसइमहणवम्मि हआराइसहसकलणो अद्रुतीसइमो तरगो
समतो । समतो अ तस्समत्तीए एस गथो ॥

पसत्थी [प्रशस्तिः]

आसाइ पन्निळमाए भारह-वासे इहत्थि अइ-रम्मो । गुज्जर-णामा देसो पुव्व लाढो त्ति विक्रमाओ ॥१॥
तस्सुत्तर-दिंसि-भाए पुर पुराण पुराणमइ-पवर । राहणपुर ति अच्छइ सच्छाण जिणिद-भवणाण ॥२॥
चमाणं तुङ्गाणं धय-वड-सेअचलेहिं चलिरेहि । पडिसेहत पिय ज णिअ-वासि-जणे अहम्माओ ॥३॥
णिअ-पाय-ण्णासेण वासेण य वास-याल-पेरत । ज पुग कय पवित्तं जय-गुरु-पमुहेहि सरीहि ॥४॥ [कुल्य]
तव्वत्थव्वो आसी सिद्धी सिरिमाल-वस-वर-रयण । णामेण तिअमचदो दक्खिण-इयाइ-गुग-कल्लिओ ॥५॥
आवय-सपत्तीणं संपत्तीए वि जेण णिअचित्ते । दिण्णो णेव कयाई विसाय हरिसाण अवयासो ॥६॥ [जुग]
अणवज्ज-कज्ज-सज्जा धम्म मणा धम्मपत्ती से धणिअं । सीलाइ-गुण-पपहाणा पहागदेवि त्ति अ अहेसि ॥७॥
तेसिं दो तणुजम्मा आवह लद्ध-धम्म-सक्कारा । जिट्ठो हरगोविंदो कणिट्ठओ बुड्ढिचदो ओ ॥८॥
सत्थ-विसारय-जइणायरिएहि विजयधम्म-सूरीहि । कासीइ महेसीहि विज्जागारम्मि सठविए ॥९॥
गतूण सोअरेहिं तेहिं वेहिपि तत्थ सत्थाण । सक्कय-पययमयाण अब्भासो काउमारदो ॥१०॥
रण-विट्ठ-गट्ठ-भाय ससार सार-वज्जिअ णाडं । एअतिअ-अचतिअ-सोक्ख मोक्ख च चाय-फल ॥११॥
पडिक्खिअ पव्वज्ज अणुओ पणुअ-राग-विहेसो । विहरइ त पाल्लिओ विसाल-विज्जओ त्ति पत्तभिहो ॥१२॥ [जुग]
जेट्ठो उण सत्थाणं णाय व्वायरणमाइ-विसयाण । वढणअभावाण ससोहणाइ-कज्जेसु दिण्ण-मणो ॥१३॥
ल-माइ सिहलेसुं पाली-भासाइ सुगय-समयाण । अब्भास-परिक्खाणु पार पत्तोप-कालेण ॥१४॥
कल्लिकायाए णाए वायरणे चेव लद्ध-तित्थ-पओ । खायाइ परिक्खाए उत्तिण्णो उच्च-कम्खाए ॥१५॥
तत्थेव विस्सविज्जालयम्मि सव्वुत्तमाइ सेणीए । पायय-सक्कय-सत्थअभावाण-कज्जम्मि विणिउत्तो ॥१६॥
तेण य पायय-भासाहिहाण गथस्स विकखमाणेणं । चिर-कालउ अभाव आयर जोग्गस्स विवुहाण ॥१७॥
वाणारसीइ वरिसे सिअहय हय-अरु रयणिरयण-मिए । विहिओ उव्वकम्मो विककमाओ एअस्म गयस्स ॥१८॥
कल्लिमायाए जाया पावय-चसु-अरु इट्ठ-परिगणिए । वरिसे भइय-भासे सिअ-सत्तमीए समत्ती ओ ॥१९॥
तस्स सुभदादेवी-णामाइ सधम्मिगोइ पत्थ वहुं । आयरिअ साहिज्ज विज्जअभयणाणुरत्ताण ॥२०॥
आरभ काऊण आरिस-भासाउ आ अववमसा । जो सहो जहिं अत्थे जत्थ गग्रे उ उवलदो ॥२१॥
वण्णाणमणुअमेण सो सहो तम्मि अत्थए लिहिओ । तगन्थ-ठाण-दमण पुट्ट णिउण णित्थेत्ता ॥२२॥
पार्टण पाइआणं भासाण बहुत्त-भेअ-भिण्णाण । महणय-पार जे गथा तयट्ठो ण एम नमो ॥२३॥
जे उण अण पत्तट्ठा सय तयव्वासिणो य अ-सहाया । ताणं हत्थाल्लवण-वणाण्वस्स णिम्माग ॥२४॥
जइ येवोवि इवेज्जा तेसिं गन्धेणणेण उवयारो । ता एत्तिअमेत्तेण मण्णे आगाम-साहल्ल ॥२५॥
अण्णाणेण मडंण भनेण वा एत्थ क्विचि जमसुट्ठ । त सोहितु पमाय नाउण मयान्मया स-वणा ॥२६॥

॥ नमामा ॥

अणुगघास सक [अनु + प्रासय्] खीलाना, भोजन कराना, 'असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा अणुगघासेज वा अणुपाएज वा' (निसी ७) । वहु अणुगघासंत (निवृ ७) ।

अणुचय पु [अनुचय] फैलाकर इकठ्ठा करना (उप ४ १५) ।

अणुचर सक [अनु + चर्] १ सेवा करना । २ पीछे-पीछे जाना, अनुसरण करना । ३ अनुष्ठान करना । अणुचरइ (आरा ६) । अणुचरति (स १३०) । कर्म अणुचरिजइ । (विसे २५५४) । वहु अणुचरंत (पुष्फ ३१३) सक अणुचरित्ता (चउ १४) ।

अणुचर देखो अणुअर (उत्त २८) ।

अणुचरग वि [अनुचरक] सेवा करनेवाला (पव ६६) ।

अणुचरिय वि [अनुचरित] अनुष्ठित, विहित, किया हुआ (कप्प) ।

अणुचि सक [अनु + च्य] मरना, एक-जन्म से दूसरे जन्म-में जाना । सक अणुचिऊण (महा) ।

अणुचित्त सक [अनु + चिन्त्] विचारना, याद करना, सोचना । अणुचित्ते (सथा ६६) । वहु अणुचित्तेमाण (राया १, १) । सक अणुचीइ, अणुचीति, अणुचीइ (आचा, सूअ १, १, ३, १३, दस ७) ।

अणुचितण न [अनुचिन्तन] सोच-विचार, पर्यालोचन (आव ४) ।

अणुचिंता स्त्री [अनुचिन्ता] ऊपर देखो (आव ४) ।

अणुचिट्ठ सक [अनु + स्था] १ अनुष्ठान करना । २ करना । अणुचिट्ठइ । (महा) ।

अणुचिण वि [अनुचीणे] १ अनुष्ठित, आचरित, विहित, 'मोहतिगिच्छा य कया, विरियायातो य अणुचिराणे' (ओघ २४६) । २ प्राप्त, मिला हुआ, 'कायसफासमणुचिराणा एगइया पाणा जहाइया' (आचा) । ३ परिमित (जीव १) ।

अणुचिणव वि [अनुचीणवत्] जिसने अनुष्ठान किया हो वह (आचा) ।

अणुचिन्न देखो अणुचिणग (सुपा १६२, रयाण ७५, पुष्फ ७५) ।

अणुचिय वि [अनुचित] अयोग्य (बृह १) ।

अणुचीइ
अणुचीति } देखो अणुचित ।

अणुच्च वि [अनुच्च] ऊचा नहीं, नीचा ।

अणुच्चिय वि [अणुच्चिक] नीची और अस्थिर शय्या वाला (कप्प) ।

अणुच्छहत वि [अनुत्सहमान] उत्साह नहीं रखता हुआ (पउम १८, १८) ।

अणुच्छित्त वि [अनुत्तिस्त] नहीं छोड़ा हुआ, अयत्त (गउड २३८) ।

अणुच्छित्त वि [अनुत्थित] १ गर्व-रहित, विनीत । २ स्फीत, समृद्ध । ३ सब से उन्नत, सर्वोच्च, 'पठिबद्ध नवर तुभे, नरिदचक्र पयाव-वियडवि । गहवलयमणुच्छित्ते धुवेच्च, परियत्तइ एरिद' (गउड) ।

अणुच्छूढ वि [अनुत्क्षिप्त] अत्यक्त, नहीं छोड़ा हुआ (गा ५२६) ।

अणुज पु [अनुज] छोटा भाई (स ३८८) ।

अणुजत्त न [अनुयात्र] यात्रा में, 'अरणया अणुजत्त निगगओ पेच्छइ कुसुमिय चूय' (महा) । अणुनत्ता स्त्री [अनुयात्रा] निर्गम, नि सरण (पिंड ८८) ।

अणुजा सक [अनु + या] अनुसरण करना, पीछे चलना । अणुजाइ (विसे ७१६) ।

अणुजाइ वि [अनुयायिन्] अनुसरण करने-वाला (सुपा ४०५) ।

अणुजाइ स्त्री [अनुयायिनि] अनुसरण (धर्म-वि ४६) ।

अणुजाण न [अनुयान] १ पीछे-पीछे चलना । २ महोत्सव-विशेष, रथयात्रा (बृह १) ।

अणुजाण सक [अनु + ज्ञा] अनुमति देना, सम्मति देना । अणुजाणइ (उव) । भूका, अणुजाणित्था (पि ५१७) । हेक, अणुजाणित्तए (डा २, १) ।

अणुजाणण न [अनुज्ञान] अनुमति, सम्मति (सूअ १, ८) ।

अणुजाणावण न [अनुज्ञापन] अनुमति लेना, 'अणुजाणावणविहिणा' (पचा ६, १३) ।

अणुजाणिय वि [अनुज्ञात] सम्मत, अनुमत (सुपा ५८४) ।

अणुजाय वि [अनुयात] १ अनुगत, अनुसृत (उव १३७ टी) ।

अणुजाय वि [अनुजात] १ पीछे से उत्पन्न ।

२ सदरा, तुल्य, 'वसभाणुजाए' (सुअ १२) ।

अणुजीव मक [अनु + जीव्] आश्रय करना । अणुजीवति (उत्त १८, १४) ।

अणुनीवि वि [अनुजीविन्] १ आश्रित, नौकर, सेवक, 'पयईए चिय अणुजीविवच्छत्ते' (सुपा ३३७, पात्र, स २४३) । 'त्तण न [८२] आश्रय, नौकरी (पि ५६७) ।

अणुजुज सक [अनु + युज्] प्रश्न करना । कर्म अणुजुजते (धर्मस २६३) ।

अणुजुत्ति स्त्री [अनुयुक्ति] योग्य युक्ति, उचित न्याय (सूअ १, ३, ३) ।

अणुजेट्ट वि [अनुज्येष्ट] १ बड़े के नजदीक का (भावम) । २ छोटा, उतरता (पउम २२, ७६) ।

अणुजोग देखो अणुओअ (ठा १०) ।

अणुज्ज वि [अनुज्ज] उत्साह-रहित, अनुत्साही, हताश (कप्प) ।

अणुज्ज वि [अनोजस्क] तेजरहित, फीका, 'अणुज्ज दीणवयण विहरइ' (कप्प) ।

अणुज्ज वि [अनुज्ज] उदरेश्य, लक्ष्य (धर्म १) ।

अणुज्जा स्त्री [अनुज्जा] अनुमति, सम्मति (पउम ३८, २४) ।

अणुज्जा देखो अणुज्जा (आचा २, १५, ३) ।

अणुज्जिय वि [अनुज्जित] बल-रहित, निर्बल (बृह ३) ।

अणुज्जुय वि [अनुज्जुक] असरल, बरू, कपटी (गा ७८६) ।

अणुज्झा सक [अनु + ध्या] चिन्तन करना, ध्यान करना । सक अणुज्झाइत्ता (भावम) ।

अणुज्झाण न [अनुध्यान] चिन्तन, विचार (भावम) ।

अणुज्झा देखो अणुज्झा । वहु अणुज्झाएत्त (कुमा) ।

अणुज्झिअ वि [दि] १ प्रयत, प्रयत्न-शील । २ जागता, सावधान (पड) ।

अणुज्झिज्जि वि [अनुच्चयिन्] क्षीण होने-वाला (वजा १, २) ।

अणुट्टा वि [अनुत्थ] नहीं उठा हुआ, म्रियत (ओघ ७०) ।

अणुट्टा सक [अनु + स्था] १ अनुष्ठान करना, शास्त्रोक्त विज्ञान करना । २ करना । क अणु-

अच्छ पु [च्छ] रीछ, मालू (परह १, १)।

अच्छ वि [आच्छ] अच्छे देश मे उत्पन्न (परण ११)।

अच्छ पु [अच्छ] मेरु पर्वत (सुज ५)।
२ न तीन बार श्रौटा हुआ स्वच्छ पानी (पदि)।

अच्छ न [दे] श्रत्यन्त, विशेष। २ शीघ्र, जल्दी (दे १, ४६)।

अच्छ वि [अक्षि] आख, नेत्र (कुमा)।

अच्छ पु [अच्छ] श्र अधिक पानीवाला प्रदेश। २ जतायो का समूह। ३ तृण, घास (मे ६, ४७)।

अच्छ पु [अच्छ] वृक्ष, पेड़ (से ६, ४७)।

अच्छअ पु [अच्छ] श्र बहेडा का वृक्ष।
२ न स्वच्छ जल (से ६, ४७)।

अच्छअर न [आच्छर्य] विस्मय, चमत्कार (कुमा)।

अच्छद वि [अच्छन्द] जो स्वाधीन न हो, परागिन, अच्छदा जे रा भुजति ए से चाइति बुधई (स २)।

अच्छक देखो अत्यक्क (गउड)।

अच्छण न [आसन] श्र बैठना (गाया १,

१)। २ पालकी गौरह सुखासन (शोध ७८)।

अच्छण न [गृह] विश्राम स्थान (जीव ३)।

अच्छण न [दे] श्र सेवा, शुभ्रूपा (बृह ३)।
२ दवना, मवलोकन (वव १)। ३ अहिंसा, द्वा (द्व ८)।

अच्छणिकर न [अच्छणिकर] अच्छनि-
हृण को चौरामी लाल से गुणने पर जो
मन्या नय हो वह (ठा २, १)।

अच्छणिकरान न [अच्छणिकरान] सख्या-
रिरेप, ननिन को चौरामी लाल से गुणने
पर ने मन्या नय हो वह (ठा २, १)।

अच्छण वि [अच्छण] अग्रुत, प्रकट (बृह
२)।

अच्छमष्ट पृ [अच्छमष्ट] रीछ, मालू (दे १,
२, ५१, १)।

अच्छमष्ट पु [दे] वन, देव-विशेष (दे १,
२)।

अच्छराजो देतो अच्छरा (पइ)।

अच्छरय पु [आस्तरक] शय्या पर बिछाने
का वस्त्र-विशेष (गाया १, १)।

अच्छरसा श्रौ [अप्सरस] श्र इन्द्र की
अच्छरा श्रौ पटराजो (ठा ६)। २ ज्ञाता-

धर्मकथा का एक अध्ययन (गाया २)।
३ देवी (पउम २, ४१)। ४ रूपवती स्त्री
(परह १, ४)।

अच्छरा स्त्री [दे अप्सरा] चूटकी, चूटकी
का आवाज (सूत्र २, २, ५४)।

अच्छराणिवाय पु [दे] श्र चूटकी। २ चूटकी
बजाने मे जितना समय लगना है वह, अत्यल्प
समय (परण ३६)।

अच्छरिअ } न [आच्छर्य] विस्मय, चम-
अच्छरिज्ज } त्कार (हे १, ५८, प्रयो ४२)।
अच्छरीअ }

अच्छल न [अच्छल] निर्दोषता, अनपराध
(दे १, १०)।

अच्छवि वि [अच्छवि] जैन-दर्शन मे
जिसको स्नातक कहते हैं वह, जीवनमुक्त
योगी (भग २५, ६)।

अच्छविकर पु [अक्षपिकर] एक प्रकार
का मानसिक विनय (ठा ८)।

अच्छहल्ल पु [अच्छभल्ल] रीछ, मालू
(पाम्)।

अच्छा स्त्री [अच्छा] वरुण देश की राज-
धानी (पव २७५)।

अच्छा स्त्री [कक्षा] गर्ब, अभिमान (से ६,
४७)।

अच्छाइ वि [अच्छादिन्] ढकनेवाला,
आच्छादक (स ३५१)।

अच्छायण न [अच्छादन] श्र ढकना (दे
७, ४५)। २ वस्त्र, कपडा (आचा)।

अच्छायणा स्त्री [अच्छादना] ढकना, आच्छा-
दित करना (वव ३)।

अच्छायत वि [अच्छातान्त] तीक्ष्ण, धार-
दार (पाम्)।

अच्छि वि [अच्छि] आँख, नेत्र (हे १ ३३,
३५)।

अच्छमठण न [अच्छमठण] आँख का मलना (बृह
२)।

अच्छिमीलिय न [अच्छिमीलित] श्र आँख को मूँदना,
मोचना। २ आँख मिचने मे जो समय लगे

वह, 'अच्छिरामीलियमेत्, एणत्थि सुह दुक्खमेव
अणुवद्ध। एणए खेरइआण, अहोएिअस पच-

माणण' (जीव ३)। 'पत्त न [अच्छि] आँख
का पक्ष, पपनी (भग १४, ८)। 'वेहग पु

[अच्छि] एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, क्षुद्र जीव-
विशेष (उत्त ३६)। 'रोडय पु [अच्छि] रीछ

एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, क्षुद्र कीट-विशेष (उत्त
३६)। 'ल वि [अच्छि] श्र आँख वाला

प्राणी। २ चतुरिन्द्रिय जन्तु (उत्त ३६)। 'मल
पु [अच्छि] आँख का मेल, कीट (निचू ३)।

अच्छिद सक [आ + अच्छि] श्र थोडा छेद
करना। २ एक बार छेद करना। ३ बलात्कार

से छीन लेना। वक्क अच्छिदमाण (भग
८, ३)।

अच्छिद पु [अच्छिन्द्र] गोशालक के एक
विक्र (शिष्य) का नाम (भग १५)।

अच्छिदण न [अच्छिदण] श्र एक बार
छेदना (निचू ३)। २ छीनना। ३ थोडा

छेद करना, थोडा काटना (भग १५)।

अच्छिदक वि [दे] अस्पृष्ट, नही छुआ हुआ
(वव १)।

अच्छिदरुल्ल वि [दे] अप्रीतिकर। २ पु
वेश, पोशाक (दे १, ४१)।

अच्छिज्ज वि [अच्छिज्ज] श्र जबरदस्ती जो
दूसरे से छीन लिया जाय (पिंड)। २ पु

जेन साधु के लिए भिक्षा का एक दोष
(आचा)।

अच्छिज्ज वि [अच्छिज्ज] जो तोडा न जा
सके (ठा ३, २)।

अच्छिज्जि स्त्री [अच्छिज्जि] श्र नाश का
अभाव, नित्यता। २ वि नाश-रहित (विसे)।

अच्छिण पु [अच्छिण] नित्यता-वाद, वस्तु को
नित्य माननेवाला पक्ष (पव)।

अच्छिद वि [अच्छिद] श्र छिद्र-रहित,
निबिड, गाढ (ज २)। २ निर्दोष (भग २, ९)।

अच्छिणण वि [अच्छिणण] श्र बलात्कार
अच्छिणण } से छीना हुआ। २ छेदा हुआ,
तोडा हुआ (पाम्)।

अच्छिणण वि [अच्छिणण] श्र नहीं तोडा
अच्छिणण } हुआ, अलग नही किया हुआ (ठा
१०)। २ अव्यवहित, अन्तर-रहित (गउड)।

(कर्म) (भग १, २, ३), 'उदिरण = उदित'
(भग १, ४, ७ टी) ।

अणुदिण्ण } व [अनुदीरित] ? जिसकी
अणुदिन्न } उदीरणा दूर भविष्य मे हो ।
२ जिसकी उदीरणा भविष्य मे न हो (भग
१, ३) ।

अणुदिय वि [अनुदित] उदय को अप्राप्त
'मिच्छत जमुदिन्न त खीण अणुदिय च उव-
सत' (भग १ ३ टी) ।

अणुदियह न [अनुदिवस] प्रतिदिन, हेमेशा
(सुर १, ११५) ।

अणुदिव न [दे] प्रभात, प्रात काल (पड्) ।
अणुदिसा } स्त्री [अनुदिक्] विदिक्,
अणुदिसी } ईशान कोण आदि विदिशा (विसे
२७०० टी, पि ६८, ४१३, कप्प) ।

अणुद्धिट्ठ वि [अनुद्धिष्ट] जिसका उद्देश्य न
किया गया हो वह (परह २, १) ।

अणुद्ध वि [अनुद्ध्व] ऊचा नही, नीचा
(कुमा) ।

अणुद्धय वि [अनुद्धत] सरल, भद्र, विनयी
(उप ७६८ टी) ।

अणुद्धरि पु [अनुद्धरिन्] एक क्षुद्र जन्तु,
कुष्ठ (कप्प) ।

अणुद्धिय वि [अनुद्धृत] ? जिसका उद्धार
न किया गया हो वह । २ बाहर नही निकाला
हुआ, 'ज कुणइ भावसल्ल अणुद्धिय इत्थ
सव्वदुहमूल' (आ ४०) ।

अणुद्धिय वि [अनुद्धृत] अपरित्यक्त, नही
छोडा हुआ (कप्प) ।

अणुधम्म पु [अणुधर्म] गृहस्थ-धर्म (विसे) ।

अणुधम्म पु [अणुधर्म] अनुकूल—हितकर
धर्म, 'एसोणुधम्मो मुणिएणा पवेइया' (सुअ
१ २, १) । चारि वि [अणुधरिन्] हित-
कर धर्म का अनुयायी, जैन-धर्मी (सुअ १,
२, २) ।

अणुधम्मिय वि [अणुधर्मिक] धर्म के अनु-
कूल, धर्मोचित, 'एय खु अणुधम्मियं तत्स'
(आचा) ।

अणुधाव सक [अनु + धाव्] पीछे दौडना ।
वक्क अणुधावत (से ४, २१) ।

अणुधावण सक [अनुधावन] पीछे दौडना
(सुपा ५०३) ।

अणुधाविर वि [अनुधावित्] पीछे दौडने-
वाला (उप ७२८ टी) ।

अणुनाइ वि [अनुनादिन्] प्रतिष्ठानि करने-
वाला (कप्प) ।

अणुनाय वि [अनुज्ञात] अनुमत, जिसको
अनुमति दी गई हो वह, 'आहवणे मोक्कलय
अणुनायाए तए नाह' (सुपा ४७७) ।

अणुनास देखो अणुगास (जीव ३ टी) ।
अणुन्नव देखो अणुण्णव । वक्क अणुन्नवेमाण
(ठा ५, ३) । क्क अणुन्नवेयव्य (कस) ।
संक्क अणुन्नवेत्ता (कस) ।

अणुन्नवणा देखो अणुण्णवणा (श्रोघ ६३०,
कस) ।

अणुन्नवणी देखो अणुण्णवणी (ठा ४, १) ।
अणुन्ना देखो अणुण्णा (सुर ४, १३३, प्रासू
१८१) ।

अणुन्नाय देखो अणुण्णाय (श्रोघ १, महा) ।
अणुपथ पु [अनुपथ] ? समीप का मार्ग
(कस) । २ मार्ग के समीप, रास्ता के पास
(वृह २) ।

अणुपत्त वि [अनुप्राप्त] प्राप्त, मिला हुआ
(सुर ४, २११) ।

अणुपन्न वि [अनुपन्न] प्राप्त (कुप्र ४०१) ।
अणुपयट्ट वि [अनुपयट्ट] अनुसृत, अनुगत
(महा) ।

अणुपयाण न [अनुप्रदान] दान का बदला
प्रतिग्रहण (संबोध ३४) ।

अणुपरियट्ट सक [अनुपरि + अट्] धूमना,
परिभ्रमण करना । संक्क अणुपरियट्टित्ताण-
द्धिरे ण भते महिड्ढिए, पभू लवणस-
मुद्द अणुपरियट्टित्ताण हव्वसाणच्छित्तए ? (भग
१८, ७) । क्क अणुपरियट्टियव्य (साया १,
६) । हेक्क अणुपरियट्टेत्त (साया १, ६) ।

अणुपरियट्ट अक [अनुपरि + वृत्] फिरना,
फिरते रहना, 'दुक्खाणमेव आवट्ट अणुपरिय-
ट्टइ' (आचा) । वक्क अणुपरियट्टमाण
आचा) । संक्क अणुपरियट्टित्ता (श्रोप) ।

अणुपरियट्टण न [अनुपर्यटन] परिभ्रमण
(सुअ १, १, २) ।

अणुपरियट्टण न [अनुपरिवर्तन] परिवर्तन,
फिरना (भग १, ६) ।

अणुपरिवट्ट देखो अणुपरियट्ट = अनुपरि +
वृत् । वक्क अणुपरिवट्टमाण (पि २८६) ।

अणुपरिवाडि, 'डी स्त्री [अनुपरिपाटि, 'टी]
अनुक्रम (से १५, ६६, पउम २०, ११, ३२,
१६) ।

अणुपरिहारि वि [अणुपरिहारिन्] 'पदि-
हारी' को मदद करनेवाला, द्यागी मुनि की
सेवा-शुभ्रूपा करनेवाला (ठा ३, ४) ।

अणुपरिहारि वि [अणुपरिहारिन्] ऊपर
देखो (ठा ३, ४) ।

अणुपवन्न वि [अनुप्रपन्न] प्राप्त (सुअ ३,
३, २१) ।

अणुपवाएत्तु वि [अनुप्रवाचयित्] पढाने-
वाला, पाठक, उपाध्याय (ठा ५, २) ।

अणुपवाय देखो अणुप्यवाय = अनुप्र +
वाच्य ।

अणुपविट्ट वि [अनुप्रविष्ट] पीछे से प्रविष्ट
(साया १, १, कप्प) ।

अणुपविस सक [अनुप्र + विश्] ? पीछे
से प्रवेश करना । २ प्रवेश करना, भीतर
जाना । अणुपविसइ (कप्प) । वक्क अणुप-
विसत (निव्व २) । संक्क अणुपविसित्ता
(कप्प) ।

अणुपवेस पु [अनुप्रवेश] प्रवेश, भीतर
जाना । (निव्व ७) ।

अणुपव्स सक [अनु + वस्] पर्यालोचन
करना, विवेचना करना । संक्क अणुपव्सिय
(सुअ १, २, २) ।

अणुपस्सि वि [अनुदर्शिन] पर्यालोचक,
विवेचक (आचा) ।

अणुपाल सक [अनु + पालय्] ? अनुभव
करना । २ रक्षण करना । ३ प्रतीक्षा करना,
राह देखना । अणुपालेइ (महा), वक्क 'साया-
सोक्खम अणुपालतेण' (पक्ख), अणुपालित,
अणुपालेमाण (महा) । संक्क अणुपालेऊण,
अणुपालित्ता, अणुपालिय (महा, कप्प, पि
५७०) ।

अणुपालण न [अनुपालन] रक्षण, प्रति-
पालन (पचभा) ।

अणुपालणा देखो अणुपालणा (विसे २५२०
टी) ।

अजीर } देखो अइअ = अजीएँ (वव १,
अजीरय } राया १, १३) ।

अजीरण देखो अइअ = अजीएँ (पिड २७,
पव १३१) ।

अजीव पु [अजीव] अचेतन, निर्जोव, जड
पदार्थ (नव २) । °काय पु [°काय] धर्मा-
त्तिकाय आदि अजीव पदार्थ (भग ७, १०) ।

अजुअ पु [दे] वृक्ष-विशेष, सप्तच्छद, सतौना
(दे १, १७) ।

अजुअ न [अयुत] दश हजार, 'दोरिख सहस्सा
रुहण, पच अजुयारि हयाए' (महा) ।

अजुअलवण पु [अयुगलवण] सतौना (दे
१, १८) ।

अजुअलवण्णा श्री [दे] इमली का पेड (दे
१, ४८) ।

अजुत वि [अयुक्त] अयोग्य, अनुचित
(विसे) । °कारि वि [°कारिन्] अयोग्य कार्य
रलेवाना (सुपा ६०४) ।

अजुतीय वि [अयुक्तिरु] युक्ति-शून्य, अन्याय्य
(सुर १२, ५४) ।

अजुय देखो अउअ, 'पच अजुयारि हयाए सत
चावो पाइअणएण' (सुख ६, १) ।

अजेअ वि [अजय] जो जीता न जा सके,
'मा मउअएणएणहविण अजेआ दोधुहराया'
(महा) ।

अजोग पु [अयोग] मन, वचन और काया
के मन् व्यापारो का जिसमे अभाव होता है
वह सर्वोत्कृष्ट योग, शैतेशी-करण (श्रीप) ।

अजोग वि [अयोग्य] अयोग्य, लायक नही
वह (निचू ११) ।

अजोगे पु [अयोगिन्] १ सर्वोत्कृष्ट योग को
ज्ञान योगी । २ मुक्त आत्मा (ठा २, १, कम्म
१, ४७, ५०) ।

अज मव [अर्ज] पैदा करना, उपाजन
करना, कमाना । अजइ (हे ४, १०८) । सक्
अजिअ (पम) ।

अज वि [अर्थ] १ वश्य । २ स्वामी, मालिक
(दे १, ४) ।

अज वि [अर्थ] १ निर्दोष । २ आर्य-गोत्र मे
वन्द्य (गिरि ६६) । ३ गिण्ट-जनोचित, 'अज्जाइ
नन्ना कोटि पप' (वन १३, ३२) । ४ लड्ड
पु [°मनु] एक जैन आचार्य (सुप ४४०) ।

अज वि [अर्थ] १ निर्दोष । २ आर्य-गोत्र मे
वन्द्य (गिरि ६६) । ३ गिण्ट-जनोचित, 'अज्जाइ
नन्ना कोटि पप' (वन १३, ३२) । ४ लड्ड
पु [°मनु] एक जैन आचार्य (सुप ४४०) ।

अज वि [आर्य] १ उत्तम, श्रेष्ठ (ठा ४, २) ।

२ मुनि, साधु (कप्प) । ३ सत्यकार्य करने-
वाला (वव १) । ४ पूज्य, मान्य (विपा १,
१) । ५ पु मातामह (निसी) । ६ पितामह

(राया १, ८) । ७ एक ऋषि का नाम
(एदि) । ८ न गोत्र-विशेष (एदि) । ९ जैन
साधु, साध्वी और उनकी शाखाओ के पूर्व मे

यह शब्द प्राय लगता है, जैसे अज्जवइर,
अज्जचंदगा, अज्जपोमिला (कप्प) । °उत्त
पु [°पुत्र] १ पति, भर्ता (नाट) । २ मालिक

का पुत्र (नाट) । °घोस पु [°घोप] भगवान्
पार्श्वनाथ का एक गणधर (ठा ८) । °मगु पु
[°मङ्ग] एक प्राचीन जैनाचार्य (सार्ध २२) ।

°मिस्स वि [°मिश्र] पूज्य, मान्य (अभि
१३) । °समुइ पु [°समुद्र] एक प्रसिद्ध
जैनाचार्य (साध २२) ।

अज्ज अ [अद्य] आज (सुर २, १६७) ।

°त्त वि [°तन्] अधुनातन, आजकल का
(रमा) । °त्ता श्री [°ता] आज कल (कप्प) ।

°त्पभिइ अ [°प्रभृति] आज से ले कर
(उवा) ।

अज्ज पु [दे] १ जिनेन्द्र देव । २ बुद्ध देव (दे
१, ५) ।

अज्ज न [आद्य] धी, धृत (पाअ) ।

अज्ज° देखो रि = ऋ ।

अज्ज अ [अद्य] आज (गा ५८) ।

अज्जत वि [आयत्] आगामी । °काल पु
[°काल] भविष्य काल (पाअ) ।

अज्जहिज्जो अ [अद्यह] आजकल (उप पृ
३३४) ।

अज्ज-कालिअ वि [अद्यकालिक] आजकल का
(अणु १५८) ।

अज्जग देखो अज्जय = अर्जक, 'अज्जगतपमज-
रिअ' (सुपा ५३) ।

अज्जग देखो अज्जय = आर्यक (निर १, १) ।

अज्जण सक [अर्ज] उपाजन करना । सक्
अज्जणिच्चा (सुअ १, ५, २, २३) ।

अज्जण } [अर्जन] उपाजन, पैदा करना
अज्जणण } (आ १२, सत्त १८), 'रज केरिस-
मेव करेमुवाय तदजणणे' (उप ७ टी) ।

अज्जम पु [अर्यमन्] १ सूर्य (पि
२६१) । २ देव-विशेष (ज ७) । ३ उत्तरा-

णालुनी नक्षत्र का अर्घ्यायक देव (ठा २,
३) । ४ न उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र (ठा २,
३) ।

अज्जय पु [आर्यक] १ मातमह, मा का
बाप (पचम ५०, २) । २ पितामह, पिता का
पिता (भग ६, ३३), 'ज पुण अज्जय-पज्जय-
जणयजियअत्थमज्जओ दाएण परमत्थओ कलक
तय तु पुरिसाभिमाणीए' (सुर १, २२०) ।

अज्जय वि [अर्जक] १ उपाजन करनेवाला,
पैदा करनेवाला (सुपा १२४) । २ पु वृक्ष-
विशेष (परण १) ।

अज्जय पु [दे] १ सुरस नामक तृण । २
गुरटक नामक तृण (दे १, ५४) । ३ तृण,
घास (निचू ११) ।

अज्जल पु [आर्यल] म्लेच्छो/की एक जाति
(परण १) ।

अज्जव न [आर्जव] सरलता, निष्कण्टता
(नव २६) ।

अज्जव (अप) देखो अज्ज = आर्य । °खड पु
[खण्ड] आर्य-देश (भनि) ।

अज्जवथा श्री [आर्जव] ऋजुता, सरलता,
(पक्खि) ।

अज्जवि वि [आर्जविन्] सरल, निष्कण्ट
(आचा) ।

अज्जविथ न [आर्जव] सरलता (सुअ १, ५,
२, २३) ।

अज्जा श्री [आर्या] १ साध्वी (पच्छ २) ।
२ गौरी, पार्वती (दे १, ५) । ३, आर्या ६-

(ज २) । ४ भगवान् मल्लिनाथ की प्रथ
शिष्या (सम १५२) । ५ मान्या, पूज्या श्री
(पि १०६, १४३, १४५) । ६ एक कला,
(श्रीप) ।

अज्जा श्री [आज्ञा] आदेश, हुकुम (हे २,
८३) ।

अज्जाय वि [अजात] अनुत्पन्न, 'अज्जायस्सि-
यरस्सवि एस सहावो त्ति दुग्घड जाए' (धम्मस
२७०) ।

अज्जाव सक [आ + ज्ञापय] आज्ञा कर,
हुकुम फरमाना । क अज्जावेयव्व (१,
२, १) ।

अज्जिअ वि [अजित] उपाजित, पैदा कि
हुआ (आ १४) ।

अणुब्रह्म } वि [अनुबद्ध] १ वंधा हुआ,
अणुबद्ध } सबद्ध (से ११, ६०)। २ सतत,
अविच्छिन्न, 'अणुबद्धतिव्वेरा परोप्पर वेयए
उदीरेंति' (परह १, १)। ३ व्याप्त (राया
१, २)। ४ प्रतिबद्ध (राया १, २)। ५
अत्यंत, बहुत, 'अणुबद्धनिरतरवेयणासु' (परह
१, १)। ६ उत्पन्न (उत्तर ६२)।

अणुबद्ध वि [अनुबद्ध] १ अनुगत (पचा ६,
२७)। २ पीछे वंधा हुआ (सिरि ४४४)।

अणुवूह देखो अणुवूह।

अणुवभट्ट वि [अनुद्भट] अनुद्धत, अनुत्पन्न
(उत्तर २)।

अणुवभूय वि [अनुद्भूय] अप्रकट, अनुत्पन्न
(नाट)।

अणुवअ देखो अणुभव = अनुभव (नाट)।

अणुभव सक [अनु + भू] १ अनुभव करना,
जानना, समझना। २ कर्मफल को भोगना।
अणुभवति (पि ४७५)। वक्र, अणुभवत
(पि ४७५)। सक्र अणुभवति, अणुभवित्ता
(नाट, परह १, १)। हेक्र अणुभवित्त
(उत्तर १८)।

अणुभव पु [अनुभव] १ ज्ञान, बोध, निश्चय
(पचा ५)। २ कर्म-फल का भोग (विसे)।

अणुभवण न [अनुभवन] ऊपर देखो (आव
४, विसे २०६०)।

अणुभवि वि [अनुभविन्] अनुभव करनेवाला
(विसे १६५८)।

अणुभव्वि वि [अनुभव्य] आसन्न भव्य
(सबोध ५४)।

अणुभाग पु [अनुभाग] १ प्रभाव, माहात्म्ये
(सूत्र १, ५, १)। २ शक्ति, सामर्थ्य (परह २)।
३ कर्मों का विपाक—फल (सूत्र १, ५, १)। ४
कर्मों का रस, कर्मों में फल उत्पन्न करने की
शक्ति, 'ताए रसो अणुभागो' (कम्म १, २ टी,
नव ३१)। ५ बंध पु [अनुबन्ध] कर्म-पुरुगलो
में फल उत्पन्न करने की शक्ति का बनना (ठा
४, २)।

अणुभाय } पु [अनुभाव] १-४ ऊपर देखो
अणुभाव } (प्रासु ३५, ठा ३, ३, गडड, आवा,
सम ६)। ५ मनोगत भाव की सूचक चेश्टा,
जैसे भौह का चढाना वगैरह (नाट)। ६ कृपा,
मेहरबानी (स ३५५)।

अणुभावग वि [अनुभावक] बोधक, सूचक,
(आवम)।

अणुभास सक [अनु + भाष्] १ अनुवाद
करना, कही हुई बात को उसी शब्द में, शब्दा-
न्तर में या दूसरी भाषा में कहना। २ चिन्तन
करना, 'अणुभासइ गुखवएण' (आहु ६, वव
३)। वक्र अणुभासयत, अणुभासमाग
(स १८४, विसे २५१२)।

अणुभासग न [अनुभाषण] अनुवाद, उक्त
बात का कहना (नाट)।

अणुभासणा वी [अनुभाषणा] ऊपर देखो
(ठा ५, ३, विसे २५२० टी)।

अणुभासय वि [अनुभाषक] अनुवादक, अनु-
वाद करनेवाला (विसे ३२१७)।

अणुभासयत देखो अणुभास।

अणुभुज सक [अनु + भुज्] भोग करना।
वक्र, अणुभुजमाण (स १६)।

अणुभूइ वी [अनुभूति] अनुभव (विसे
१६११)।

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात, निश्चित (महा)।
°पुव्व वि [°पूर्व] पहले ही जिसका अनुभव
हो गया हो वह (राया १, १)।

अणुभूस सक [अनु + भूष्] भूषित करना,
शोभित करना। अणुभूसेदि (शौ) (नाट)।

अणुमइ वी [अनुमति] अनुमोदन, सम्मति
(आ ६)।

अणुमतव्व देखो अणुमणग (विसे १६६०)।

अणुमगग न [अनु] पीछे-पीछे, 'एव विचितयती
अणुमग्गेएव चलियाह' (सुर ४, १४२, महा)।
°गामि वि [°गामिन्] पीछे-पीछे जानेवाला
(पि ४०५)।

अणुमउज सक [अनु + मउज्] विचार
करना। सक्र अणुमउजत्ता (जीवस १६६)।
अणुमणण } सक्र [अनु + मण्] अनुमति
अणुमन्न } देना, अनुमोदन करना। अणु-
मणणे, अणुमन्नइ (पि ४५७, महा)। वक्र
अणुमणगमाण (उवर ३१)। सक्र अणु-
मन्निउण (महा)।

अणुमन्निथ } वि [अनुमत] अनुमोदित,
अणुमय } सम्मत (उप ४ २६१)।

अणुमर अक्र [अनु + मृ] १ मरना। २ सती
होना, पति के मरने से मर जाना, 'ज केव-

लियो अणुमरति' (आउ ३५)। भवि अणु
मरिहिइ (पि ५२२)।

अणुमर अक्र [अनु + मृ] क्रम से मरना, पीछे-
पीछे मरना, 'इय पारपरमरणे अणुमरइ सह
स्ससो जाव' (पिंड २७४)।

अणुमरण न [अनुमरण] ऊपर देखो (गडड)।
अणुमहत्तर वि [अनुमहत्तर] मुखिया का
प्रतिनिधि (निचू ३)।

अणुमाण न [अनुमान] १ अटकल-ज्ञान, हेतु
के द्वारा अज्ञात वस्तु का निर्णय (गा ३४५,
ठा ४, ४)।

अणुमाण न [अनुमान] १ अभिप्राय-ज्ञान
(सूत्र १, १३, २०)। २ अनुसार (तदु २७)।

अणुमाण सक [अनु + मानय्] अनुमान
करना। सक्र अणुमाणइत्ता (वव १)।

अणुमाय वि [अणुमात्र] बहुत थोडा, थोडा
परिमाणवाला (दस ५, २)।

अणुमाल अक्र [अनु + मालय्] शोभित
होना, चमकना। सक्र अणुमालिवि (भवि)।

अणुमिण सक [अनु + मा] अटकल से
जानना। कर्म, अणुमिणइइ (धर्मस १२१६),
अणुमीयए (दसनि ४, ३०)।

अणुमेअ वि [अनुमेय] अनुमान के योग्य
(मै ७३)।

अणुमेरा वी [अनुमर्यादा] मर्यादा, हद
(कम)।

अणुमोइय वि [अनुमोदित] अनुमत, समत,
प्रशंसित (आउर, भवि)।

अणुमोय सक [अनु + मुद्] अनुमति देना,
प्रशंसा करना। अणुमोयइ (उव)। अणुमोएमो
(चउ ५८)।

अणुमोयग वि [अनुमोदक] अनुमोदन करने-
वाला (विसे)।

अणुमोयण न [अनुमोदन] अनुमति, सम्मति,
प्रशंसा (उव, पचा ६)।

अणुम्मुक वि [अनुमुक्त] नहीं छोडा हुआ
(परह १, ४)।

अणुम्मुह वि [अनुमुख] असुख, विमुक्त;
'किह साहुस्त अणुम्मुहो चिट्ठामि ति' (महा)।

अणुय पु [अणुक] धान्य-विशेष (पव १५६)।

अणुयथा देखो अणुकपा (गडड, न २१४)।

अज्ञावण न [अध्यापन] पाठन (सिरि २७) ।
अज्ञावणा स्त्री [अध्यापना] पढाना (कम्म
१, ६०) ।

अज्ञावय वि [अध्यापक] पढानेवाला,
शिक्षक, गुरु (वसु, सुर ३, २६) ।

अज्ञावस अक [अध्या + वस्] रहना,
वास करना । वक्क अज्ञावसत (उवा) ।
अज्ञास पु [अध्यास] १ ऊपर बैठना । २
निवास-स्थान (सुपा २०) ।

अज्ञासणा स्त्री [अध्यासना] सहन करना
(राज) ।

अज्ञासिअ वि [अध्यासित] १ आश्रित,
अभिहित । २ स्थापित, निवेशित (नाट) ।

अज्ञाहय वि [अध्याहृत] १ उत्तेजित, 'सीय-
तेण सुरहिगधमट्टियागवेण हत्थी अज्ञाहओ
वण समरेइ' (महा) ।

अज्ञीण वि [अक्षीण] १ अक्षय, अखूट । २
न अव्ययन (विसे ६५८) ।

अग्गुवज्ज देवो अग्गोववज्ज (पि ७७,
श्रौप) ।

अग्गुववण देवो अग्गोववण (विपा १,
१) ।

अग्गुववाय देवो अग्गोववाय (उप ४ २८१) ।
अग्गुसिअ वि [अध्युचित] आश्रित (पिड
५५०) ।

अग्गुसिर वि [अशुपिर] छिद्र-रहित (श्रोत्र
३१३) ।

अग्गेउ वि [अध्येत्] पढनेवाला (विसे
१४६५) ।

अग्गेल्ली स्त्री [दे] दोहनेपर भी जिसका दोहन
अर्जो । ऐसी गैया (दि १, ७) ।

अग्गमणा स्त्री [अध्येयणा] अधिक प्रार्थना,
विद्येय पाचना (राज) ।

अग्गोवरा पु [अध्यवपूरक] १ साधु के
अग्गोवरय } लिए अधिक रसोई करना । २
गन्धु के लिए बढाकर की हुई रसोई (श्रौप,
५६०) ।

अग्गोविया स्त्री [दे] बल-स्थल के आभू-
त न की जाती मानियों की रचना (दि १,
३३) ।

अग्गोवमिअ वि [आग्गुपगमिक] स्वेच्छा
व मोरु (परण ३०) ।

अग्गोववज्ज अक [अध्युप + पद्] अत्यासक्त
होना, आसक्त करना । अग्गोववज्जइ (पि
७७) । भविअग्गोववज्जिहिइ (श्रौप) ।

अग्गोववण } वि [अध्युपपन्न] अत्यंत
अग्गोववन्न } आसक्त (विपा १, २, राया १,
२, महा, पि ७७) ।

अग्गोववाय पुं [अध्युपपाद्] अत्यन्त आस-
क्ति, तल्लीनता (पण्ह २, ५) ।

अग्गोवणा देवो अग्गोवणा, 'पयमो पसन्नव-
यणो विहिणा सक्खाणभावणाकुसलो' (संघोष
२४) ।

अट } सक [अट्] भ्रमण करना, घूमना ।
अट्ट } अट्टइ (पड्, हे १, १६५), परिअट्टइ
(हे ४, २३०) ।

अट्ट सक [कथ्] कथ्य करना । अट्टइ (हे
४, ११६, षड्, गडड) ।

अट्ट अक [शुष्] सूखना, शुष्क होना ।
अट्टति (से ५, ६१) । वक्क अट्टंत (से ५,
७३) ।

अट्ट वि [आर्त] १ पीडित, दुःखित (विपा
१, १) । २ ध्यान-विशेष—इष्ट-सयोग, अनिष्ट-
वियोग, रोग-निवृत्ति और भविष्य के लिए

चिन्ता करना (ठा ४, १) । °ण वि [°ज्ञ]
पीडित की पीडा को जाननेवाला (षड्) ।

अट्ट वि [अट्ट] गत, प्राप्त (राया १, १, भग
१२, २)

अट्ट पुन [] १ दूकान, हाट (आ १४) ।
२ महल पर का पर, अट्टारी (कुमा) । ३
आकाश (भाग) २० २) ।

अट्ट वि [दे] १ क्रश, दुर्गल । २ बडा महान् ।
३ निर्लज्ज, वेशरम । ४ आलसी, दुस्त । ५ पु
शुक, तोता । ६ शब्द, आवाज । ७ न मुख ।
८ झूठ, असत्योक्ति (दि १, ५०) ।

अट्टट्ट वि [दे] गया हुआ, गत (दि १, १०) ।
अट्टट्टहास पु [अट्टट्टहास] देवो अट्टट्टहास
(उव) ।

अट्टण न [अट्टण] १ व्यायाम, कसरत (श्रौप) ।
२ पु इस नाम का एक प्रसिद्ध मल्ल (उत्त
४) । °शाला स्त्री [°शाला] व्यायाम-शाला,
कसरत-शाला (श्रौप, कथ) ।

अट्टण न [अट्टण] परिभ्रमण (धर्म ३) ।
अट्टणा स्त्री [आवर्तना] आवृत्ति (शक ३१) ।

अट्टमट्ट वि [दे] निरर्थक, व्यर्थ, निकम्मा
(सुख ५, ८) ।

अट्टमट्ट पुं [दे] १ आलवान, कियारी (हे २,
१७४) । २ अशुभ सकल्प-विकल्प, पाप-सबद्ध
अव्यवस्थित विचार,

'अणवट्टिय मणो जस्स भाइ बहुयाइ अट्टमट्टाई' ।
त चितिय च न लहइ, सचिराणइ य पावकम्माइ'
(उव) ।

अट्टय पुं [अट्टक] १ हाट, दूकान (आ १२) ।
२ पात्र के छिद्र को बन्द करने में उपयुक्त
द्रव्य-विशेष (बृह १) ।

अट्टयक्कली स्त्री [दे] कमर पर हाथ रखकर
खडा रहना (पात्र) ।

अट्टहास पु [अट्टहास] बहुत हंसना, खिल-
खिला कर हंसना (पि २७१) ।

अट्टालग } पुन [अट्टालक] महल का उपरि-
अट्टालय } भाग, अट्टारी (सम १३७, पउम
२, ६) ।

अट्टि स्त्री [आर्ति] पीडा, दुःख (आचा) ।

अट्टिय वि [आर्तित] शोकादि से पीडित,
'अट्टा अट्टियचित्ता, जह जीवा दुक्खसागरयुव्वंति'
(श्रौप) ।

अट्टिय वि [अर्दित] व्याकुल, व्यग्र, 'अट्टदुह-
ट्टियचित्ता' (श्रौप) ।

अट्ट पु [अर्थ] समय (सूअ १, २, २, १६) ।

अट्ट पुन [अर्थ] ५ वस्तु, पदार्थ (उवा २;
अच्छ), 'अट्टवसी' (सूअ १, १४), 'अट्टाइ,
हेऊई, पसिणाइ' (भग २, १) । २ विषय,
'इदियट्टा' (ठा ६) । ३ शब्द का अभिवेय,

वाच्य (सूअ १, ६) । ४ मतलब, तात्पर्य (विपा
२, १; भास १८) । ५ तत्त्व, परमार्थ, 'लुब्धे-
त्य भो भारहरा गिराण, अट्ट न याणाह अहिज्ज

वेए (उत्त १२, ११), 'इओ उएसु दुहमट्ट-
दुग्ग' (सूअ १ १०, ६) । ६ प्रयोजन, हेतु
(हे २, २३) । ७ अभिलाष, इच्छा, 'अट्टो भने !

भोगेहि, हता अट्टो' (राया १, १६, ७८ ३) ।
८ उद्देश्य, लक्ष्य (सूअ १, २, ६) ९ वन,
पैसा (आ १४, आचा) । १० फल, 'अट्ट

'अट्टुत्ताणि सिक्खेज्जा गिरट्टाणि उ वज्जे'
(उत्त १) । ११ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १) । °कर
पु [°कर] । १ मन्त्री । २ निमित्त शास्त्र का

विद्वान् (ठा ४, ३) । °जाय वि [°जायार्थ] ।

अणुवजीवि वि [अनुपजीविन्] १ अना-
-श्रित । २ आजीविका-रहित (पंचा १५) ।

अणुवजुत्त वि [अनुपयुक्त] असावधान,
ख्याल-शून्य (अभि १३१) ।

अणुवज्ज सक [गम्] जाना । अणुवज्जइ (हे
४, १६२) ।

अणुवज्ज सक [दे] सेवा-शुश्रूषा करना (दे
१, ४१) ।

अणुवज्जण न [दे] सेवा-शुश्रूषा (दे १, ४१) ।

अणुवज्जिअ वि [दे] जिसकी सेवा-शुश्रूषा
की गई हो वह (दे १, ४१) ।

अणुवज्जिअ वि [दे] गत, गया हुआ (दे
१, ४१) ।

अणुवट्ट देखो अणुवत्त = अनु + वृत् । कृ
अणुवट्टणीअ (नाट) ।

अणुवट्टि देखो अणुवत्ति = अनुवर्तिन् (विसे
२४१७) ।

अणुवड सक [अनु + पत्] अभिन्न होना ।
अणुवडइ (उवर ७१) ।

अणुवडिअ वि [अनुपतित] पीछे गिरा हुआ
(हम्मीर ५०) ।

अणुवत्त सक [अनु + वृत्] १ अनुसरण
करना । २ सेवा-शुश्रूषा करना । ३ अनुकूल
वरतना । ४ व्याकरण आदि के पूर्व सूत्र के
पद का, अन्वय के लिए नीचे के सूत्र में
जाना । अणुवत्तइ (स ४२) । वक्र अणुवत्त,
अणुवत्तत, अणुवत्तमाण (प्राप्र, विसे
३५६८, नाट) । कृ. अणुवट्टणीअ, अणु-
वत्तणीअ, अणुवत्तियन्व (नाट, उप १०३१
टी) ।

अणुवत्त वि [अनुद्वृत्त] अनुत्पन्न (पिंड
१८) ।

अणुवत्त वि [अनुवृत्त] १ अनुद्यत, अनुगत ।
२ अनुकूल किया हुआ । ३ प्रवृत्त (वक्र २) ।

अणुवत्तग वि [अनुवर्त्तक] अनुकूल प्रवृत्ति
करनेवाला, सेवा करनेवाला (उव) ।

अणुवत्तग वि [अनुवर्त्तक] अनुसरण-कर्ता
(सूत्र १, २, २, ३२) ।

अणुवत्तण न [अनुवर्त्तन] १ अनुसरण (स
२३६) । २ अनुकूल प्रवृत्ति (गा २६५) । ३
पूर्व सूत्र के पद का अन्वय के लिए नीचे के
सूत्र में जाना (विसे ३५६८) ।

अणुवत्तणा ली [अनुवर्त्तना] ऊपर देखो
(उवर १४८) ।

अणुवत्तय देखो अणुवत्तग, 'अन्नमन्नच्छदाणु-
वत्तया' (साया १, ३) ।

अणुवत्ति ली [अनुवृत्ति] १ अनुसरण (स
४५६) । २ अनुकूल प्रवृत्ति । ३ अनुगम (विसे
७०५) ।

अणुवत्ति वि [अनुवर्त्तिन्] अनुकूल प्रवृत्ति
करनेवाला, भक्त, सेवक,

'तुह चडि । चलणकमलाणुवत्तिणो कह
णु सजमिज्जति ।

सेरिहवहसकियमहिसहीरमाणेण व जमेण'
(गठड) ।

अणुवत्ति वि [अनुवर्त्तिन्] ऊपर देखो
(धर्मवि ५२, मोह १०२) ।

अणुवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, बेजोड,
अद्वितीय (आ २७) ।

अणुवमा ली [अनुपमा] एक प्रकार का साद्य
द्रव्य (जीव ३) ।

अणुवमिय वि [अनुपमित] देखो अणुवम
(सुपा ६८) ।

अणुवम्य देखो अणुव्वय (पचम २, ९२) ।

अणुवम्य सक [अनु + वद्] अनुवाद करना,
कहे हुए अर्थ को फिर से कहना । वक्र अणु-
व्यमाण (आचा) ।

अणुवरय वि [अनुपरत] १ असयत, अनि-
ग्रही (ठा २, १) । २ क्रि वि निरन्तर हमेशा
(रयण २५) ।

अणुवलद्धि ली [अनुपलद्धि] १ अभाव,
अप्राप्ति । २ अभाव-ज्ञान, 'दुविहा अणुवलद्धी'र'
(विसे १६८२) ।

अणुवलढभमाण वि [अनुपलभ्यमान] जो
उपलब्ध न होता हो, जो जानने में न आता
हो (दसन १) ।

अणुवल्लेवय वि [अनुपलेपक] उपलेप-रहित,
अलिप्त (परह १, २) ।

अणुवसत वि [अनुपशान्त] अशान्त, कुपित
(उत १६) ।

अणुवसम पु [अनुपशम] उपशम का अभाव
(उव) ।

अणुवसु वि [अनुवसु] रागवाला, प्रीतिवाला
(आचा) ।

अणुवह न [अनुपथ] पीछे, 'कुमराणुवहेण
सो लग्गो' (उप ६ टी) ।

अणुवहण न [अनुवहन] वहन, 'तवोवहाण-
नुयाणमणुवहण' (श्रु १३५) ।

अणुवहय वि [अनुपहत] अविनाशित
(पिंड) ।

अणुवहुआ ली [दे] नवीढा ली, दुलहिन (दे
१, ४८) ।

अणुवाइ वि [अनुपातिन्] १ अनुसरण
करनेवाला (ठा ६) । २ सम्बन्ध रखनेवाला
(सम १५) ।

अणुवाइ वि [अनुवादिन्] अनुवाद करने-
वाला, उक्त अर्थ को कहनेवाला (सूत्र १,
१२, सत्त १४ टी) ।

अणुवाइ वि [अनुवाचिन्] पढनेवाला,
अभ्यासी, 'समुन्नवीसवरिसो अणुवाइ सम्बमु-
त्तस्स' (सत्त १४ टी) ।

अणुवाएज्ज वि [अनुपादेय] ग्रहण करने
के अयोग्य, (आवम) ।

अणुवाद देखो अणुवाय = अनुवाद (विसे
३५७७) ।

अणुवादि देखो अणुवाइ = अनुपातिन् (उत
१६, ६) ।

अणुवाय पु [अनुपात] १ अनुसरण (परण
१७) । २ सबन्ध, सयोग (भग १२, ४) ।
३ आगमन (पचा ७) ।

अणुवाय पु [अनुवात] १ अनुकूल पवन
(राय) । २ वि अनुकूल पवन वाला प्रदेश—
स्थान (भग १६, ६) ।

अणुवाय वि [अनुपाय] उपाय-रहित, निरु-
पाय (उप पृ १४) ।

अणुवाय पुं [अनुवाद] अनुभाषण, उक्त बात
को फिर से कहना (उवा. दे १, १३१) ।

अणुवायण न [अनुपातन] अवतारण, उता-
रना (धर्म २) ।

अणुवायय वि [अनुवाचक] कहनेवाला,
अभिधायक, 'पोसहसदो रूढोए एत्थ पब्बाणु-
वायमो भण्णिमो' (सुपा ६१६) ।

अणुवाल देखो अणुपाल । वक्र अणुवाल्लेत्त
(स २३) । संकृ अणुवाल्लिज्जण (स १०२) ।

अणुवालण न [अनुपालन] रक्षण, परिपालन
(आचा) ।

अट्टावय न [अथपद] गृहस्थ (दस ३, ४) ।
 अट्टावय न [अथपद] अर्थ-शास्त्र, सपत्ति-शास्त्र
 (सुम १, ६ परह १, ४) ।
 अट्टावीस स्त्रीन [अष्टाविंशति] अठाईस, २८
 (पि ४४२, ४४५) ।
 अट्टावीसइ स्त्री [अष्टाविंशति] सख्या-विशेष,
 अठाईस, २८ । °विह वि [°विध] अठाईस
 प्रकार का (पि ४५१) ।
 अट्टावीसइम वि [अष्टाविंशति] १ अठाईसवां
 (पञ्च २८, १४१) । २ न तेरह दिनों के
 लगातार जपवास (शाया १, १) ।
 अट्टासट्टि स्त्री [अष्टाषष्टि] सख्या-विशेष, अठ-
 सठ, ६८ (पिग) ।
 अट्टासि स्त्री [अष्टाशीति] सख्या-विशेष
 अट्टासीइ } अठासी ८८ (पिग, सम ७३) ।
 अट्टासीय वि [अष्टाशीत] अठासीवां (पञ्च
 ८८, ४४) ।
 अट्टाह न [अष्टाह] आठ दिन (शाया १, ८) ।
 अट्टाहिया स्त्री [अष्टाहिका] १ आठ दिनों
 का एक उत्सव (पञ्च ८) । २ उत्सव (शाया
 १, ८) ।
 अट्टि वि [अर्थिन्] प्रार्थी, गरजवाला, अमि-
 तापी (आवा) ।
 अट्टि पु [अस्थि] १ हड्डी, हाड, 'अथ अट्टो'
 (सुम २, १, १६) । २ फल की गुट्टी (दस
 ५, १, ७३) ।
 अट्टि स्त्री [अस्थि, °क] १ हड्डी, हाड
 अट्टिग } (कुमा परह १, ३) । २ जिसमें
 अट्टिय } बीज उत्पन्न न हुए हो ऐसा अपरि-
 पक्व फल (इह १) । ३ पु कापालिक, 'अट्टी
 वित्रा बुन्धियमिक्खु' (इह १, वव २) ।
 'मिजा स्त्री [°मिजा] हड्डी के भीतर का रस
 (अ ३, ५) । °सरक्ख पु [°सरक्ख] कापा-
 लिक (वव ७) । °सेण न [°सेण] १ वल्-
 लय को शास्त्र एक गोद । २ पु इस गोद
 का प्रभव पुरप और उसकी सन्तान (अ ७) ।
 अट्टिय वि [अर्थिक] १ गरजू, याचक, प्रार्थी
 (सुम १, २, ३) । २ अर्थ का कारण, अर्थ
 करनेवाला । ३ मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण
 पून 'पमना लाभस्सति विज्ज अट्टिय सुय'
 (ज १) ।

अट्टिय वि [आर्थिक] १ अर्थ का कारण, अर्थ-
 सम्बन्धी । २ मोक्ष का कारण (उत्त १) ।
 अट्टिय वि [अर्थित] अभिलषित, प्रार्थित
 (उत्त १) ।
 अट्टिय वि [अस्थित] १ अव्यवस्थित, अनि-
 यमित (परह १, ३) । २ चंचल, चपल (से
 २, २४) ।
 अट्टिय वि [आस्थिक] हड्डी-सम्बन्धी, हाड
 का, 'अट्टिय रस सुगामा' (भत १४२) ।
 अट्टिय वि [आस्थित] स्थित, रहा हुआ, (से
 १, ३५) ।
 अट्टिय पु [अस्थिक] १ वृक्ष-विशेष । २ न
 फल-विशेष, अस्थिक वृक्ष का फल (दस ६,
 १, ७३) ।
 अट्टिल्लय पु [अस्थि] फल की गुट्टी (पिड
 ६०३) ।
 अट्टुत्तर वि [अष्टोत्तर] आठ से अधिक
 (श्रीप) । °सय न [°शत] एक सौ और
 आठ (काल) । °सय वि [°शततम] एक
 सौ आठवां (पञ्च १०८, ५०) ।
 अउ } देखो अट्टु = अष्टु (पिग, पि ४४२,
 अड } १४६, भग, सम १३४) ।
 अड सक [अट्] भ्रमण करना, फिरना,
 'अडति ससारे' (परह १, १) । वक्क अडमाण
 (शाया १, १४) ।
 अड पु [अवट] १ कूप, इनारा (पात्र) । २
 कूप के पास पशुओं के पानी पीने के लिए
 जो गत किया जाता है वह (हे १, २७१) ।
 °अड देखो तड = तट (गा ११७, से १,
 ५५) ।
 अडइ } स्त्री [अटवि, °वी] भयानक जगल,
 अडई } वन (सुपा १८१, नाट) ।
 अडडडिभय न [दे] विपरीत मैथुन (दे १,
 ४२) ।
 अडखम्म सक [दे] सभालना, रक्षण करना ।
 कर्म 'अडखम्मिज्जति सवरिआहि वणे' (दे १,
 ४१) ।
 अडखम्मिअ वि [दे] सभाला हुआ, रक्षित
 (दे १, ४१) ।
 अडड न [अटट] 'अटटान' को चौरासी
 लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह
 (अ ३, ४) ।

अडडंग न [अटटाङ्ग] सख्या-विशेष, 'तुडिय'
 या 'महातुडिय' को चौरासी लाख से गुणने
 पर जो सख्या लब्ध हो वह (अ ३, ४) ।
 अडण न [अटन] भ्रमण, घूमना (अ ६) ।
 अडणी स्त्री [दे] मार्ग, रास्ता (दे १ १६) ।
 अडपल्लण न [दे] वाहन-विशेष (जीव) ।
 अडयणा स्त्री [दे] कुलटा, व्यभिचारिणी
 अडया स्त्री (दे १, १८, पात्र, गा २४४,
 ६६२, वज्जा ८६) ।
 अडयाल न [दे] प्रशसा, तारोफ (परण २) ।
 अडयाल स्त्री [अष्टचत्वारिंशत्] अठ-
 अडयालीस } तालीस, ४८ की संख्या (जीव
 ३, सम ७०) । °सय न [°शत] एक सौ
 और अठतालीस, १४८ (कम्म २, २५) ।
 अडवडण न [दे] स्वलना, रुक-रुक चलना,
 'तुरयावि परिस्सता अडवडण काउमारद्धा'
 (सुपा ६४५) ।
 अडवि स्त्री [अटवि, °वी] भयकर जगल,
 अडवी } गहरा वन (परह १, १, महा) ।
 अडसट्टि स्त्री [अष्टषष्टि] अठसठ (पि ४४२) ।
 °म वि [°तम] अठसठवां (पञ्च ६८, ५१) ।
 अडाड पु [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे
 १, १९) ।
 अडिल्ल पुं [अटिल] एक जाति का पक्षी
 (परण १) ।
 अडिल्ला स्त्री [अडिल्ला] छन्द-विशेष (पिग) ।
 अडोल्लिया स्त्री [अटोल्लिका] १ एक राज-
 पुत्री, जो युवराज की पुत्री और गर्दभराज की
 बहिन थी । २ मूषिका, चूही (इह १) ।
 अडोल्लिय वि [अटोपित] भरा हुआ (परह
 १, ३) ।
 अडु वि [दे] जो आडे आता हो, बीच में
 बाधक होता हो वह, 'सो कोहाडओ अडुओ
 आवडिओ' (ज १४६ टी) ।
 अडुक्ख सक [क्षिप्] फेंकना, गिराना ।
 अडुक्खइ (हे ४, १४३, वड्) ।
 अडुक्खिय वि [क्षिप्त] फेंका हुआ (कुमा) ।
 अडुण न [अडुण] १ चर्म, चमड़ा । २ ढाल,
 फलक, 'नचमुगववणअडुणएडकिआजाणुभोस-
 णसरोरा' (सुर २, ५) ।
 अडुअ वि [दे] आरोपित (वव १ टी) ।
 अडुडिया स्त्री [अडुडिका] महली की क्रिया-विशेष
 (विसे ३३५७) ।

करना । २ प्रीति करना । ३ परिचय करना ।
अणुसज्जन्ति (स) । भूका अणुसज्जित्वा (भग
६, ७)

अणुसज्जणा स्त्री [अणुसज्जना] अनुसरण,
अनुवर्तन (वव १) ।

अणुसट्ठ वि [अणुशिष्ट] जिसको शिक्षा दी
गई हो वह, शिक्षित (सुर ११, २६) ।

अणुसट्ठि वि [अणुशिष्टि] १ शिक्षण, सीख,
उपदेश (ठा ३, ३) । २ स्तुति, श्लाघा,
'अणुसट्ठो य थुइ ति एगट्ठा' (वव १) । ३
आज्ञा, अनुज्ञा, सम्मति, 'इच्छामो अणुसट्ठि
पव्व ज देह मे भयव' (सुर ६, २०६) ।

अणुसमय न [अणुसमय] प्रतिक्रिया (भग
४१, १) ।

अणुसय पृ [अणुशय] १ पश्चात्ताप, खेद
(से २, १६) । २ गर्व, अभिमान (अणु) ।

अणुसर सक [अणु + सृ] पीछा करना,
अनुवर्तन करना । अणुसरइ (सण) । वक्क
अणुसरत (महा) । क अणुसरियव्व (ठा
५, १) ।

अणुसर सक [अणु + स्मृ] याद करना,
चिन्तन करना । वक्क अणुसरत (पजम ६६,
७) क अणुसरियव्व (भावम) ।

अणुसरण न [अणुसरण] १ पीछा करना ।
२ अनुवर्तन (विसे ६१३) ।

अणुसरण न [अणुस्मरण] अनुचिन्तन, याद
करना (पचा १, स २३१) ।

अणुसरि देखो अणुसारि, 'आसायण परिहातो
मतो सत्तीइ पवयणाणुसरि' (सबोध ४) ।

अणुसरिड वि [अणुस्मर्त्त] याद करनेवाला
(विसे ६२) ।

अणुसरिच्छ १ वि [अणुसदृश] १ समान,
अणुसरिस १ तुल्य (पजम ६४, ७०) । २
योग्य, लायक (से ११, ११५, पजम ८५,
२६) ।

अणुसार पु [अणुस्वार] १ वर्ण-विरोध, विन्दी ।
२ वि अनुनासिक वर्ण (विसे ५०१) ।

अणुसार पु [अणुसार] अनुसरण, अनुवर्तन
(गडड, भवि) । २ माफिक, मुताबिक, 'कहिया-
णुसारो सव्वप्रवगय सुमइणा सम्म' (साधं
१४४) ।

अणुसारि वि [अणुसारिन्] अनुसरण करते
वाला (गडड, स १०१, साधं २६) ।

अणुसास सक [अणु + शास्] १ सीख
देना, उपदेश देना । २ आज्ञा करना । ३ शिक्षा
करना, सजा देना । अणुसासति (पि १७२) ।
वक्क अणुसासंत (पि ३६७) । कवक्क,
अणुसासिज्जंत (सुपा २७३) । क अणुसा-
सणिज्ज (कुमा) । हेक्क अणुसासिडं (पि
५७६) ।

अणुसासण न [अणुशासन] १ सीख, उप-
देश (सूत्र १, १५) । २ आज्ञा, हुकुम (सूत्र
१, २, ३) । ३ शिक्षा, सजा (पचा ६) । ४
अनुकम्पा, दया, 'अणुकप ति वा अणुसासणति
वा एगट्ठा' (पचच्च) ।

अणुसासणा स्त्री [अणुशासना] ऊपर देखो
(णाय्या १, १३) ।

अणुसासिय वि [अणुशासित] शिक्षित (उत्त
१, पि १७३) ।

अणुसिक्खर वि [अणुशिक्खि] सीखनेवाला,
'ज ज करेसि ज ज, जपसि जह जह
तुम निअच्छेसि ।
तं तं अणुसिक्खिरीए, दीहो विअहो ण संपडइ' ।
(गा ३७८) ।

अणुसिट्ठ देखो अणुसट्ठ (सूत्र १, ३, ३) ।
अणुसिट्ठि देखो अणुसट्ठि (ओघ १७३, बृह
१, उत्त १०) ।

अणुसिण वि [अणुष्ण] गरम नहीं वह,
ठण्डा (कम्म १, ४६) ।

अणुसील सक [अणु + शील्य] पालन
करना, रक्षण करना । अणुसीलइ (सण) ।

अणुसुत्ति वि [दे] अनुकूल (दे १, २५) ।

अणुसुमार सक [अणु + स्मृ] याद करना ।
अणुसुमारइ (धर्मवि ५६) । प्रयो अणुसुमारवेइ
(धर्मवि ६५) ।

अणुसुय अक [अणु + स्वप्] सोने का अनु-
करण करना । अणुसुयइ (तदु १३) ।

अणुसूआ स्त्री [दे] शीघ्र ही प्रसव करनेवाली
स्त्री (दे १, २३) ।

अणुसूय वि [अणुस्यूत] अनुविद्ध, मिलो हुआ
(सूत्र २, ३) ।

अणुसूयग वि [अणुसूचक] जासूस की एक
श्रेणी,

'सूयग तहाणुसूयग-पडिसूयग-सव्वसूयगा एव ।
पुरिसा कयवित्तीया, वसति सामतनगरेसु ।
महिला कयवित्तीया, वसति सामतनगरेसु ॥'
(वव १) ।

अणुसेडि स्त्री [अणुश्रेणि] १ सीधी दाढ़ ।
२ न लाइनसर (पि ६६, ३०४) ।

अणुसोय पु [अणुस्रोतस्] १ अनुकूल
प्रवाह (ठा ४, ४) । २ वि अनुकूल, 'अणु-
सोयसुहो लोको पडिसोओ आसमो सुविहियाणं
(दसत्त २) । ३ न प्रवाह के अनुसार,
'अणुसोयपट्टिए बहुजणम्मि

पडिसोयलद्वलक्खेण ।

पडिसोयमेव अण्णा, दायव्वो होउकामेण ।
(दसत्त २) ।

अणुसोय सक [अणु + शुच्] सोचना,
चिन्ता करना, अफसोस करना । वक्क अणु-
सोयमाण (सुपा १३३) ।

अणुस्सर देखो अणुसर = अणु + स्मृ । संक
अणुस्सरित्ता (सूत्र १, ७, १६) ।

अणुस्सर देखो अणुसर = अणु + स्मृ । वक्क,
अणुस्सरत (स १४०) ।

अणुस्सरण न [अणुस्मरण] चिन्तन करना,
याद करना (उव, स ५३५) ।

अणुस्सार पु [अणुस्वार] १ अनुस्वार, विन्दी ।
२ वि अनुस्वारवाला अक्षर, अनुस्वार के साथ
जिसका उच्चारण हो वह (एदि, विसे ५०३) ।
अणुस्सुय वि [अणुस्सु] उत्कण्ठारहित
(सूत्र १, ६) ।

अणुस्सुय वि [अणुश्रुत] १ अवधारित (उत्त
५) । २ सुना हुआ (सूत्र १, २, २) । ३ न
भारत-आदि पुराण-शास्त्र (सूत्र १, ३, ४) ।

अणुहर सक [अणु + हृ] अनुकरण करना,
नकल करना । अणुहरइ (पि ४७७) ।

अणुहरिय वि [अणुहृत] जिसका अनुकरण
किया गया हो वह, अनुकृत,

'अणुहरिय धीर तुमे, चरिय निययस्स
पुव्वपुरिस्सत्त ।

भरह-महानरवइणो, तिहुयणविक्खाय-कित्तिस्म'
(महा) ।

अणुहव सक [अणु + भू] अनुभव करना ।
अणुहवइ (पि ४७५) । वक्क अणुहवमाण
(सुर १, १७१) । क अणुहवियव्व, अणु-

कुलकर (सम १५०) । २ एक अन्तकृद् मुनि (अत ३) ।

अणतइ पु [अनन्तजित्] चालू काल के चौदहवें जिन-देव, (पञ्चम ९, १४८) ।

अणतग } १ देखो अणंत (ठा ५, ३) । २ न
अणतय } वल्ल-विशेष (श्रीघ ३६) । ३ पु
ऐरवत क्षेत्र के एक जिनदेव (सम १५३) ।

अणतय न [अनन्तक] वल्ल, कपडा (पव २) ।

अणतर वि [अनन्तर] १ व्यवधान-रहित, अश्व-
वहित, 'अणतर चय चइत्ता' (राया १, ८) ।
२ पु वर्तमान समय (ठा १०) । ३ क्रिदि वाद
में, पीछे (विपा १, १) ।

अणतरहिय वि [अनन्तरहित] १ अव्यवहित,
व्यवधान-रहित (आचा) । २ सजीव, सञ्चित,
चेतन (निबू ७) ।

अणतसो म [अनन्तशस्] अनन्त बार (द
५५) ।

अणताणुवधि पु [अनन्तानुबन्धिन्] अनन्त
काल तक आत्मा को सप्तर में अमरण कराने-
वाले कपायो की चार चौकाडियों में प्रथम
चौकाडी, अतिप्रचंड क्रोध, मान, माया और लोभ
(सम १६) ।

अणस वि [अनश] अणएड (धर्मस ७०६) ।

अणक पु [दे] १ एक म्लेच्छ देश । २ एक
म्लेच्छ जाति (परह १, १) ।

अणकप पु [दे] १ रोप, गुस्सा, क्रोध (सुपा
१२, १२०, ६१०, भवि) । २ लजा (स ३७६) ।

अणकर न [अनक्षर] श्रुत-ज्ञान का एक
नर-वण के बिना सपर्क के, छींकना, चुटकी
बगाना, सिर हिलाना आदि सकेनो से दूसरे का
अभिप्राय जानना (एदि) ।

अणगार वि [अनगार] १ जिसने घर-बार
या विपा हो वह, साधु, यति, मुनि (विपा
१, ८, नग १, ३) । २ घर-रहित, भिक्षुक,
अनन्ता (ठा ६) । ३ पु भरतक्षेत्र के भावी
पत्नमें दीपवर या एक पूर्वभवीय नाम (सम
१४९) ।

अणन [अश्रुत] 'सूयकृताग' सूत्र का एक अश्व-
न (अर २, ५) ।

अणगरि [अगकार] १ करवा करनेवाला ।
२ क्रिन्, अमान (उत् १) ।

अणगार वि [अनाकार] आकृतित-शून्य, आकार-
रहित, 'उवल्लभव्वहाराभावओ नाएणार च'
(विसे ६५) ।

अणगारि पु [अनगारिन्] साधु, यति, मुनि
(सम ३७) ।

अणगारिय वि [आनगारिक] साधु-सबन्धी,
मुनि का (विसे २६७३) ।

अणगाल पु [अगाल] दुर्मिष, अकाल
(वह ३) ।

अणगिण वि [अनम] १ जो नगानहो, वल्लो
से आच्छादित । २ पु कल्पवृक्ष की एक जाति,
जो वल्ल देता है (तदु) ।

अणगघ देखो अनघ (कूप १) ।

अणगघ वि [अणघन] ऋण-नाशक, कर्म-
नाशक (दस) ।

अणगघ } वि [अनघ्य] १ अमूल्य, बहुमूल्य,
अणगघेय } कीमती (आव ४), 'रयणाइ
अणगघेयाइ ह्ठति पच्चप्पयारवणणाइ' (उप
५६७ टी, स ८०) । २ महात्, गुरु । ३ उत्तम,
श्रेष्ठ, 'त भगवत् अणह नियसत्तीए अणगघभ-
त्तीए, सकारेमि' (विसे ६५, ७१) ।

अणघ वि [अनघ] शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ (पचव
४) ।

अणच्छ देखो करिस = कृष् । अणच्छइ (हे
४, १८७) ।

अणच्छिआर वि [दे] अच्छिन्न, नहीं छेदा
हुआ (दि १, ४४) ।

अणज्ज वि [अन्याउय] अयोग्य, जो न्याय-
युक्त नहीं (परह १, १) ।

अणज्ज वि [अनार्य] आर्य-मिन्न, वृष्ट, खराब,
पापी (परह १, १, अमि १२३) ।

अणज्जव (अप) ऊपर देखो । °खड पु [°खण्ड]
अनार्य देश, (भवि ३१२, २) ।

अणज्जभवसाय पु [अनघ्यवसाय] अव्यक्त
ज्ञान, अति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) ।

अणज्जमाय पु [अनध्याय] १ अध्ययन का
अभाव । २ जिसमें अध्ययन निषिद्ध है वह काल
(नाट) ।

अणट्ट वि [अनार्त] आर्त-ध्यान से रहित,
'अणट्टा कित्ति पच्चव' (उत् १८, ५०) ।

अणट्ट पु [अनर्थ] १ नुकसान, हानि (राया
१, ६, उप ६ टी) । २ प्रयोजन का अभाव

(आव ६) । ३ वि निष्कारण, बुधा, निष्फल
(निबू १, परह २, १) ।

°दड पु [°दण्ड] निष्कारण हिंसा, बिना ही
प्रयोजन दूसरे की हानि (सुअ २, २) ।

अणड पु [दे] जार, उपपत्ति (दि १, १८, पड) ।

अणडड वि [अनर्ध] विभाग-रहित, अखण्ड
(ठा ३, ३) ।

अणण वि [अनन्य] १ अभिन्न, अप्रयुक्तभूत
(निबू १) । २ मोक्ष-मार्ग, 'अणणणं चरमाणे
से ए छणणे ए छणाणए' (आचा) । ३ असा-
धारण, अद्वितीय (सुपा १८६, सुर १, ७) ।

°तुल्ल वि [°तुल्य] असाधारण, अनुपम (उप
६४८ टी) । °दसि वि [°दर्शिन] पदार्थ को

सत्य-सत्य देखनेवाला (आचा) । °परम वि
[°परम] सयम, इन्द्रिय-निग्रह, 'अणणणपरमे

णणणे, एो पमाण कयाइवि' (आचा) । °मण,
°मणस वि [°मनस्क] एकाग्र चित्तवाला,

तल्लोन (श्रौप पञ्चम ९, ६३) । °समाण वि
[°समान] असाधारण, अद्वितीय (उप ५६७

टी) ।

अणत्त वि [अनात्त] अगृहीत, अस्वीकृत (ठा
२, ३) ।

अणत्त वि [अनार्त्त] अपीडित, 'दव्वावइमाईसु
अत्तमणत्ते गवेसण कुणइ' (वव १) ।

अणत्त वि [अणार्त्त] ऋण से पीडित (ठा
३, ४) ।

अणत्त वि [अनात्र] दु खकर, सुख-नाशक,
'शेरइअण भते । कि अत्ता पोग्गला अणत्ता
वा' (मग १४, ६) ।

अणत्त न [दे] निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य
(दि १, १०) ।

अणत्थ देखो अणट्ट (पञ्चम ६२, ४, आ २७,
सण) ।

अणत्थत्त वड्ड [अतिष्ठत्] १ नहीं रहता
हुआ । २ अस्त होता हुआ, 'अणत्थत्ते दिवसयरे
जो चयइ चउव्विहपि आहार' (पञ्चम १४,
१३४) ।

अणन्न देखो अणण (सुपा १८६, सुर १,
७, पञ्चम ६, ६३) ।

अणपन्निय देखो अणवणिय (मग १०, २) ।

अणप्प वि [अनर्प्य] अर्पण करने के अयोग्य
या अशक्य (ठा ६) ।

अणोसिय वि [अनुषित] १ जिसने वास न किया हो। २ अन्ववस्थित, 'अणोसिएण न करेइ एच्चा' (धर्म ३, सूत्र १, १४)।
 अणोहतर वि [अनोघन्तर] पार जाने के लिए असमर्थ, 'मुणिएणा हु एय पवेइय अणो-हतरा एए, नो य अ्रोह तरित्तए' (आचा)।
 अणोहट्टय वि [अनपघट्टक] निरकुश, स्व-च्छन्दी (एयाया १, १६)।
 अणोहीण वि [अनवहीन] हीनता-रहित (पि १२०)।
 अण्ण सक [भुज्] भोजन करना, खाना। अण्णइ (पड्)।
 अण्ण स [अन्य] दूसरा, पर (प्रासू १३१)।
 उस्थिय वि [तिथिक, यूथिक] अन्य दर्शन का अनुयायी (सम ६०)। गगहण न [अहण] १ गान के समय होनेवाला एक प्रकार का मुख-विकार। १ पु गानेवाला, गान्वाविक, गवैया (निचू १७)। धम्मिय वि [धार्मिक] भिन्न धर्म वाला (ओव १५)।
 अण्ण न [अन्न] १ नाज, चावल आदि धान्य (सूत्र १, ४, २)। २ भक्ष्य पदार्थ (उत्त २०)। ३ भक्षण, भोजन (सूत्र १, २)। इलाय, गिलाय वि [गलायक] वासी अन्न को खानेवाला (ओप, भग १६, ३)। विहि पुच्छी [विधि] पाक-कला (ओप)।
 अण्ण न [अर्णस्] पानी, जल (उत्त ५)।
 अण्ण वि [दे] १ आरोपित। २ खरिडत (पड्)।
 अण्ण देखो कण्ण = कर्ण (गा ५६४, कप्पू)।
 अण्णअ पु [दे] १ जवान, तरुण। २ घृतं, ठग। ३ देवर (दे १, ५५)।
 अण्णइअ वि [दे] १ तृप्त (दे १, १६)। २ सब विषयो मे तृप्त, सर्वार्थ-तृप्त (पड्)।
 अण्णओ अ [अन्यतस्] दूसरे से, दूसरी तरफ (उत्त १)। देखो अन्नओ।
 अण्णण वि [अन्योन्य] परस्पर, आपस मे (पड्)।
 अण्णण वि [अन्यान्य] और और, अलग-अलग,
 'अण्णण्णइ उव्वेता,
 ससारवहम्मि एारवसाणम्मि ।

मरणति वीरहियआ,
 वगइट्टाणाइव कुलाड' (गउड)।
 अण्णत्त अ [अन्यत्र] दूसरे में, भिन्न स्थान मे (गा ६५५)।
 अण्णत्ति स्त्री [दे] अवज्ञा, अपमान, निरादर (दे १, १७)।
 अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३६)।
 अण्णत्थ देखो अण्णत्त (विपा १, २)।
 अण्णत्थ वि [अन्यस्थ] दूसरे (स्थान) मे रहा हुआ (गा ५५०)।
 अण्णत्थ वि [अन्वर्थ] यथार्थ, यथा नाम तथा गुण वाला, 'ठियमरणत्थे तयत्थनिर-वेक्ख' (विसे)।
 अण्णमण्ण देखो अण्णण्ण = अन्योन्य, 'अण्ण-मण्णमण्णरत्तया' (एयाया १, २)।
 अण्णमय वि [दे] पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ (दे १, २८)।
 अण्णय देखो अन्नय (धर्मस ३६२)।
 अण्णयर वि [अन्यतर] दो मे मे कोई एक (कप्प)।
 अण्णया अ [अन्यदा] कोई समय मे (उप ६ टी)।
 अण्णव पु [अर्णव] १ समुद्र। २ संसार, 'अण्णवसि महोघसि एगे तिएणे दुहत्तरे' (उत्त ५)।
 अण्णव न [अण्णवत्] एक लोकोत्तर मुहूर्त्त का नाम (ज ७)।
 अण्णह न [अन्वह] प्रतिदिन, हमेशा (धर्म १)।
 अण्णह देखो अण्णत्त (पड्)।
 अण्णह अ [अन्यथा] अन्य प्रकार से, अण्णहा विपरीत रीति से, उलटा (पड्, महा)। भाव पुं [भाव] वैपरीत्य, उलटा-पन (बृह ४)।
 अण्णहि देखो अण्णत्त (पड्)।
 अण्णा स्त्री [आज्ञा] आज्ञा, आदेश (गा २३, अभि ६३, मुद्दा ५७)।
 अण्णाइट्ट वि [अन्वादिष्ट] आदिष्ट, जिसको आदेश दिया गया हो वह, 'अण्णुएण मालागारे भोगरपाणिएणा जक्खेए अण्णाइट्टे समाणे' (अंत २०)।

अण्णाइट्ट वि [अन्वादिष्ट] १ व्याप्त (१ ४, १)। २ परावीन, परवश (भग १ ६)।
 अण्णाइस (अप) वि [अन्यादृश] दूसरे जैसा (पि २४५)।
 अण्णाण न [अज्ञान] १ अज्ञान, अज्ञानकारं मूर्खता (दे १, ७)। २ मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान (भग ८, २)। ३ वि ज्ञान-रहित मूर्ख (भग १, ६)।
 अण्णाण न [दे] दाय, विवाह-काल मे वा को अथवा वर को जो दान दिया जाता वह (दे १, ७)।
 अण्णाणि वि [अज्ञानिन्] १ ज्ञान रहित मूर्ख (सूत्र १, ७)। २ मिथ्या-ज्ञानी (धर्म १)। ३ अज्ञान को ही श्रेयस्कर माननेवाला अज्ञान-वादी (सूत्र १, १२)।
 अण्णाणिय वि [अज्ञानिक] १ अज्ञानवादी, अज्ञानवाद का अनुयायी (भाव ६, सम १०६)। २ मूर्ख, अज्ञानी (सूत्र १, १, २)।
 अण्णाय वि [अज्ञात] अविदित, नही जाना हुआ (परह २ १)।
 अण्णाय पु [अन्याय] न्याय का अभाव (आ १२)।
 अण्णाय वि [दे] आर्द्र, गीला (से ४, ६)।
 अण्णाय वि [अन्याय्य] न्याय से च्युत, न्याय विरुद्ध, 'जे विग्गहीए अण्णायभासी, न से समे होइ अण्णमपत्ते' (सूत्र १, १३)।
 अण्णाय्य (शौ) ऊपर देखो (मा २०)।
 अण्णारिच्छ वि [अन्यादृच्छ] दूसरे के जैसा (प्राभा)।
 अण्णारिस वि [अन्यादृश] दूसरे के जैसा (पि २४५)।
 अण्णासय वि [दे] विस्तृत, बिछाया हुआ (पड्)।
 अण्णिज्जमाण देखो अण्णे।
 अण्णिय वि [अन्वित] युक्त, सहित (सूत्र १, १०, नाट)।
 अण्णिया स्त्री [दे] देखो अण्णी (दे १, ५१)।
 अण्णिया स्त्री [अन्निका] एक विख्यात जैन मुनि की माता का नाम (ती ३६)। उक्त पुं [पुत्र] एक विख्यात जैन मुनि (ती ३६)।

अणह न [अनभस्] भूमि, पृथिवी (से ६, ३)।

अणहपणय वि [दे] अनष्ट, विद्यमान (दे १, ४८)।

अणहवगय वि [दे] तिरस्कृत, भस्मित (पह)।

अणहा लो [अधुना] इस समय (प्राक् ८०)।

अणहारय पु [दे] खल्ल, खला, जिसका मध्य-नीचा हो वह जमीन (दे १, ३८)।

अणहिअ वि [अहृदय] हृदय-रहित, निष्पूर, निर्दय (प्राप, गा ४१)।

अणहिगय वि [अनधिगत] १ नहीं जाना हुआ। २ पु वह साधु, जिसको शत्रुओं का ज्ञान न हो, अगीतार्थ (वच १)।

अणहिण देवो अणभिण (प्राप)।

अणहियास वि [अनध्यास] असहिष्णु, मदन नहीं करनेवाला (उव)।

अणहिल न [अणहिल्ल] गुजरात देश की अणहिल्ल प्राचीन राजधानी, जो आजकल 'पाटन' नाम से प्रसिद्ध है (ती २६, कुमा)।
अणहय न [पाटक] देवो अणहिल्ल (पु १०, मुंग १०८८)।

अणहीण वि [अनधीन] स्वतन्त्र, अनायत्त (सग १२१)।

अणहुल्लिय वि [दे] जिसका फल प्राप्त न हुआ हो वह (सम्मत १४३)।

अणह वि [अनादि] आदि-रहित, नित्य (सम १२५)। अणहण, निहण वि [अनिधन]

अणहण वि [अनादि] आदि-रहित, नित्य (सम १२५)। अणहण, निहण वि [अनिधन] प्राण वचन शश्वत (उव, सम्म २५, प्राप ४)। अणहण, निहण वि [अनिधन] प्राण वचन शश्वत (उव, सम्म २५, प्राप ४)। अणहण, निहण वि [अनिधन] प्राण वचन शश्वत (उव, सम्म २५, प्राप ४)।

अणहण वि [अनादेय] १ अनुपादेय, ग्रहण करने के योग्य। २ नाम-कर्म का एक भेद, चिन्ते वदय मे जीव का वचन, युक्त होने पर न प्राण नहीं समझा जाता है (कम्म १, २७)।

अणहण वि [अनादेय] १ अनुपादेय, ग्रहण करने के योग्य। २ नाम-कर्म का एक भेद, चिन्ते वदय मे जीव का वचन, युक्त होने पर न प्राण नहीं समझा जाता है (कम्म १, २७)।

अणहण वि [अनादेय] १ अनुपादेय, ग्रहण करने के योग्य। २ नाम-कर्म का एक भेद, चिन्ते वदय मे जीव का वचन, युक्त होने पर न प्राण नहीं समझा जाता है (कम्म १, २७)।

अणहण वि [अनादेय] १ अनुपादेय, ग्रहण करने के योग्य। २ नाम-कर्म का एक भेद, चिन्ते वदय मे जीव का वचन, युक्त होने पर न प्राण नहीं समझा जाता है (कम्म १, २७)।

अणहण वि [अनादेय] १ अनुपादेय, ग्रहण करने के योग्य। २ नाम-कर्म का एक भेद, चिन्ते वदय मे जीव का वचन, युक्त होने पर न प्राण नहीं समझा जाता है (कम्म १, २७)।

अणाइय पु [अणणातीत] ससार, दुनिया (सग १, १)।

अणाइय वि [अनादृत] जिसका आदर न किया गया हो वह (उप ८३३ टी)।

अणाइल वि [अनाविल] १ अकल्पित, निर्मल (परह २, १)।

अणाईअ देवो अणाइय (उप १०३१ टी, पि ७०)।

अणाउ पु [अनायुष्क] १ जिन-देव (सूअ अणाउय) १, ६)। २ मुक्तात्मा, सिद्ध (ठा १)।

अणाउल वि [अनाकुल] अश्याकुल, धीर (सूअ १, २, २, राया १, ८)।

अणाउत्त वि [अनायुक्त] उपयोग-शून्य, बे-ख्याल, असावधान (ओप)।

अणाएज देवो अणाइज्ज (सम १५६)।

अणागय पु [अनागत] १ भविष्य काल, 'अणागयमपस्सता, पच्चुप्पन्नवेसगा।

ते पच्छा परितप्पति, खीरो आउम्मि जोव्वरो' (सूअ १, ३, ४)। २ वि भविष्य मे होनेवाला (सूअ १, २)। अणाइजी [अणाइजी] भविष्य काल (नव ४२)।

अणागलिय वि [अनर्गलित] नहीं रोका हुआ (उवा)।

अणागलिय वि [अनाकलित] १ नहीं जाना हुआ, अलक्षित (राया १, ६)। २ अपरिमित, 'अणागलियतिव्वचडरोस सप्परुवं विउव्वह' (उवा)।

अणागार वि [अनाकार] १ आकार-रहित, आकृति-शून्य (ठा १०)। २ विशेषता-रहित (कम्म ४, १२)। ३ न दर्शन, सामान्य ज्ञान (सम ६५)।

अणाजीव वि [अनाजीव] १ आजीविका-रहित। २ आजीविका की इच्छा नहीं रखनेवाला। ३ नि स्पृह, निरोह (दस ३)।

अणाजीवि वि [अनाजीविन्] ऊपर देखो, 'अणिलाई अणाजीवी' (पडि, निचू १)।

अणाड पु [दे] जादू, उपपत्ति (दे १, १८)।

अणाडिय वि [अनादृत] १ जिसका आदर न किया गया हो वह, तिरस्कृत (आव ३)। २, पु जम्बूद्वीप का अधिष्ठायाक एक देव (ठा २, ३)।

३ लो जम्बूद्वीप के अधिष्ठायाक देव की राजधानी (जीव ३)।

अणाणुगामिय वि [अनानुगामिक] १ पीछे नहीं जानेवाला (ठा ५, १)। २ न अवधि-ज्ञान का एक भेद (एदि)।

अणादि देवो अणाइ (स ६८३)।

अणादिय देवो अणाइय (इक, परह १, १, अणादीय) ठा ३, १)।

अणादेज्ज देवो अणाइज्ज (परह १, ३)।

अणाभिगह न [अनाभिग्रह] मिथ्यात्व का एक भेद (पच ५, २)।

अणाभोग पु [अनाभोग] १ अनुपयोग, बे-ख्याली, असावधानी (आव ४)। २ न मिथ्यात्व-विशेष (कम्म ४, ५१)।

अणामिय वि [अनामिक] १ नाम-रहित। २ पु असाध्य रोग (तदु)। ३ लो, कनिष्ठागुली के ऊपर की अगुली।

अणाय वि [अज्ञात] नहीं जाना हुआ, अपरिचित (पउम २४, १७)।

अणाय पु [अनाक] मर्त्यलोक, मनुष्य-लोक (से १, १)।

अणाय पु [अनात्मन्] आत्म-भिन्न, आत्मा से परे (सम १)।

अणायग वि [अनायक] नायक-रहित (पउम ६६, ७०)।

अणायग वि [अज्ञातक] स्वजन-रहित, अकेला (निचू ६)।

अणायग वि [अज्ञायक] अज्ञान, निर्बोध (निचू ११)।

अणायतण न [अनायतन] १ केश्या आदि अणाययण नीच लोगों का घर (दस ५, १)।

२ जहाँ सबज पुरुषों का ससर्ग न होता हो वह स्थान (परह २, ४)। ३ पतित साधुओं का स्थान (आव ३)। ४ पशु, नपुंसक वगैरह के ससर्गवाला स्थान (ओप ७६३)।

अणायत्त वि [अनायत्त] पराधीन (पउम २६, २६)।

अणायर पु [अनादर] अ-बहुमान, अपमान (पात्र)।

अणायरण न [अनाचरण] अनाचार, खराब आचरण।

वन्धन हो वह । २ पु आघाकर्म दोष (पिंड ६५) ।

अत्तट्टु वि [आत्मार्थ] १ आत्मीय, स्वकीय (धर्म २) । २ पु स्वार्थ, 'इह कामनियत्तत्स अत्तट्टु नावरज्भद' (उत्त ८) ।

अत्तट्टिय वि [आत्मार्थिक] १ आत्मीय । २ जो अपने लिए किया गया हो, 'उवक्खड भोगण माहणारणं अत्तट्टिय सिद्धमहेगपक्ख' (उत्त १२) ।

अत्तण } देखो अत्प = आत्मन् (मुच्छ
अत्तणअ } २३६) । ० करक वि [आत्मीय]
निजी, स्वकीय (नाट, पि ४०१) ।

अत्तणअ } (शौ) वि [आत्मीय] स्वकीय,
अत्तणक } अपना, निजका (पि २७७, नाट) ।
अत्तणिल्लिय वि [आत्मीय] स्वकीय (ठा
३, १) ।

अत्तणीअ (शौ) ऊपर देखो (स्वप्न २७) ।

अत्तमाण देखो आवत्त = आ + वृत् ।

अत्तय पु [आत्मज] पुत्र, लडका । ० या स्त्री
[०जा] पुत्री, लडकी (विपा १ १) ।

अत्तव्व वि [अत्तव्य] खाने लायक, भक्ष्य
(नाट) ।

अत्ता स्त्री [दे] १ माता, माँ (दे १, ५१,
चारु ७०) । २ सासू (दे १, ५१, गा ६६७,
हेका ३०) । ३ भूमा । ४ सखी (दे १, ९१) ।

० अत्ता देखो जत्ता (प्रति ८२) ।

अत्ताण देखो अत्त = आत्मन्, (पि ४०१) ।

अत्ताण वि [अत्राण] १ शरण-रहित, रक्षक-
वर्जित (परह १, १) । २ पु कन्वे पर लाठी
रखकर चलनेवाला मुसाफिर । ३ फटे-टूटे कपडे
पहनकर मुसाफिरी करनेवाला यात्री (बृह १) ।

अत्ति पु [अत्ति] इस नाम का एक ऋषि
(गउड) ।

अत्ति स्त्री [अत्ति] पीडा, दु ख (कुमा, सुपा
१८५) । ० हर वि [०हर] पीडा-नाशक, दु ख
का नाश करनेवाला (अभि १०३) ।

अत्तिहरी स्त्री [दे] द्वी, समाचार पहुंचाने-
वाली स्त्री (पड) ।

अत्तीकर सक [आत्मी + कृ] अपने अधीन
करना, वश करना । अत्तीकरेइ, वहु अत्ती-
करत (निचू ४) ।

अत्तीकरण न [आत्मीकरण] अपने वश
करना (निचू ४) ।

अत्तुकरिस } पुं [आत्मोत्कर्ष] अभिमान,
अत्तुकोस } गर्व, 'तम्हा अत्तुकरिसो वजे-
यवो जइजणेण' (सुअ १, १३, सम ७१) ।

अत्तुकोसिय वि [आत्मोत्कर्षिक] गविष्ठ,
अभिमानी (श्रौप) ।

अत्तेय पु [आत्रेय] १ अत्रि ऋषि का पुत्र
(पि १०, ८३) । २ एक जैन मुनि (विसे
२७६९) ।

अत्तो अ [अतस्] १ इससे, इस हेतु से
(गउड) । २ यहा से (प्रामा) ।

अत्थ देखो अट्टु = अर्थ (कुमा, उप ७२८,
८८४ टी, जी १, प्रासू ६५, गउड), 'अरोइ-
अत्थे कहिए विलावो' (गोय ७), 'अत्थसहो
फलत्थोय' (विसे १०३६, १२४३) । ० जोणि
स्त्री [०योनि] धनोपाजन का उपाय, साम,
दाम, दण्ड रूज अर्थ नीति (ठा ३, ३) । ० णय
पु [०णय] शब्द को छोड अर्थ को ही मुख्य
वस्तु माननेवाला पक्ष (अणु) । ० सत्थ न
[शास्त्र] अर्थ शास्त्र, सपत्ति-शास्त्र (राया १,
१) । ० वइ पुं [०पति] १ धनी । २ कुवेर
(वव ७) । ० वाय पु [०वाद] १ गुणवर्णन ।

२ दोष-निरूपण । ३ गुण-वाचक शब्द । ४
दोष-वाचक शब्द (विसे) । ० वि वि [०वित्त]
अर्थ का जानकार (पिंड १ भा) । ० सिद्ध वि
[०सिद्ध] १ प्रभूत धनवाला (ज ७) । २
पु ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (तित्थ) ।

० लिय न [०लीक] धन के लिए असत्य
बोलना (परह १, २) । ० लोयण न
[०लोचन] पदार्थ का सामान्य ज्ञान (आचू
१) । ० लोयण न [०लोकन] पदार्थ का
निरीक्षण,

'अत्यालोयण-तरला, इयरकईण भमति बुद्धीओ ।
अत्यन्नेय निरारम्भमेति हियय कइन्दण ॥'
(गउड) ।

अत्थ पुं [अस्त] १ जहा सूर्य अस्त होता है
वह पर्वत (से १०, १०) । २ मेरु पर्वत
(सम ६५) । ३ वि अविद्यमान (राया १,
१३) । ० गिरि पुं [०गिरि] अस्ताचल (सुर
३, २७७, पउम १६, ४५) । ० सेल पु
[०शैल] अस्ताचल (सुर ३, २२६) । ० चल
पुं [०चल] अस्त-गिरि (कप्पु) ।

अत्थ न [अस्त्र] हथियार, आयुध (पउम ८,
५०, से १४, ६१) ।

अत्थ सक [अर्थय] मागना, याचना करना,
प्रार्थना करना, विज्ञप्ति करना । अत्यण
(निचू ४) ।

अत्थ अक [स्था] बैठना । अत्थइ (आरा ७१) ।
अत्थ } देखो अत्त = अत्र (कप्प, पि २६३,
अत्थं } ३६१) ।

अत्थडिल वि [अस्थण्डिल] साधुओ के रहने
के लिए अयोग्य स्थान, सुद्र जन्तुओ से व्याप्त
स्थान (श्रौघ १३) ।

अत्थंत वहु [अस्त यत्] अस्त होता हुआ
(वजा २२) ।

अत्थकिरिआ स्त्री [अर्थक्रिया] वस्तु का
व्यापार, पदार्थ से होनेवाली क्रिया (धर्मं
४६६) ।

अत्थक न [दे] १ अकारण, अकस्मात्, वे-
समय (उप ३३०, से ११, २४, आ ३०,
भवि), 'अत्थकगजिउभतहित्यहियआ पहिअ
जाम्मा' (गा ३८६) । २ वि अखिन्न (वजा
६) । ३ क्रि वि अनवरत, हमेशा (गउड) ।

अत्थगघ वि [दे] १ मध्य-वर्ती, बीच का,
'सभए अत्यगघे वा ओइएणोसु घएण पट्ट'
(श्रौघ ३४) । २ अगाध, गभीर । ३ न लम्बाई,
आयाम । ४ स्थान, जगह (दे १, ५४) ।

अत्थण न [अर्थन] प्रार्थना, याचना (उप
७२८ टी) ।

अत्थणिकर पुं [अर्थनिपूर] देखो अच्छ-
णिकर (अणु ६६) ।

अत्थणिकरग पुं [अर्थेनिपूराङ्ग] देखो
अच्छणिकरग (अणु ६६) ।

अत्थरिय वि [अर्थार्थिन्] धन की इच्छा-
वाला (उव १३६) ।

अत्थम अक [अस्तम् + इ] अस्त होना, अदृश्य
होना । अत्थमइ (पि ५५८) । वहु अत्यमत
(पउम ८२, ५६) ।

अत्थमण न [अस्तमयन] अस्त होना, अदृश्य
होना (श्रौघ ८०७, से ८, ८५, गा २८४) ।

अत्थमाविय वि [अस्तामापिन] अस्त वर-
वाया हुआ (सम्पत् १६१) ।

अत्यमिय वि [अस्तामित] १ अस्त हुआ,

अणियय—अणुङ्गण

अणियय वि [अनियत] १ अव्यवस्थित, अनियमित (उच्च) । २ कल्पवृक्ष की एक जाति, जो वक्र देती है (ठा १०) ।
 अणिया देखो अणिदा (विड) ।
 अणिया स्त्री [दे] धार, अग्र-भाग, गुजराती में 'अणी' 'सत्ताणियाइ पद्या' (धर्मवि १७) ।
 अणिरिक वि [दे] परतन्त्र, पराधीन' (काप्र ५५, गा ६६१) ।
 अणिरिण वि [अनुण] ऋण-वर्जित, उन्नयण, अनुणो (अभि ४६, चाह ६६) ।
 अणिरुद्ध वि [अनिरुद्ध] १ अप्रतिहत, नहीं रोना हुआ । (सूत्र १, १२) । २ एक अन्त-रुद्ध मुनि (अन्त १) ।
 अणिल पु [अनिल] १ वायु, पवन (कुमा) । २ एक प्रतीत तीर्थंकर का नाम (तित्थ) । ३ रावत वंशीय एक राजा (पञ्च ६, २६४) ।
 अणिला स्त्री [अनिला] वाईसवें तीर्थंकर की एक शिष्या (पव ६) ।
 अणिल न [दे] प्रभात, सबेरा (दे १, १६) ।
 अणिस न [अनिश] निरन्तर, सदा, हमेशा (गा २६२, प्रासू २६) ।
 अणिसट्ट वि [अनिसट्ट] १ अनिश्चित । अणिसिद्ध २ असमत, अनुज्ञात । ३ ऐसी मित्रा, जिसके मालिक अनेक हो और जो सब की प्रमुखात् से ली न गई हो, साधु की भिक्षा का एक दोष (विड, जौण) ।
 अणिसोह वि [अनिशीथ] शास्त्र-विशेष, जो प्रकाश में पड़ा या पढ़ाया जाय (आचम) ।
 अणिसरुड वि [अनिशीकृत] जिस पर किसी साम्य व्यक्ति का अधिकार न हो, सर्व-मायाण (धम २) ।
 अणिरसा स्त्री [अनिश्रा] अनासक्ति, आसक्ति का अभाव (उच्च) ।
 अणिरिमप वि [अनिश्रित] १ अनामक, आसक्तिरहित (सूत्र १, १६) । २ प्रतिबन्ध-रहित, आनन्दरहित (धम १) । ३ अनाश्रित, किसी के माहात्म्य की इच्छा न रखनेवाला (अन्त १८) । ४ न ज्ञान-विशेष, अग्रग्रह-ज्ञान का अभाव, जो त्रिप या पुत्रक के बिना ही प्राप्त है (जा ६) ।
 अणिरि [अनोह] १ धीर, महिष्णु (सूत्र १, २, २) । २ निष्कपट, सरल (सूत्र १, ८) । ३ निर्मम, निःस्पृह (आचा) ।
 अणिह वि [अस्निह] स्नेहरहित (सूत्र १, २, २, ३०) ।
 अणिह वि [दे] १ सदृश, तुल्य । २ न मुख, मुँह (दे १, ५१) ।
 अणिहय वि [अनिहत] अहत नहीं मारा हुआ । 'रिच पुं [रिपु] एक अन्त-रुद्ध मुनि (अन्त ३) ।
 अणीइस वि [अनीइस] इम माफिक नहीं, विलक्षण (स ३०७) ।
 अणीय न [अनोक] सेना, लश्कर (ओप) ।
 अणीयस पु [अनीयस] एक अन्त-रुद्ध मुनि का नाम (अन्त ३) ।
 अणीस वि [अनीश] असमर्थ (अभि ६०) ।
 अणीसकड देखो अणिसकड (धर्म २) ।
 अणीहारम वि [अनिहारिम] युवा आदि में होनेवाला मरण-विशेष (भग १३, ८) ।
 अणु अ [अनु] यह अव्यय नाम और धातु के साथ लगता है और नीचे के अर्थों में से किसी एक को बतलाता है, १ समीप, नजदीक, 'अणुकुडल' (गडड) । २ लघु, छोटा, 'अणु-गाम' (उत्त ३) । ३ क्रम, परिपाटी, 'अणुगुह' (बृह १) । ४ मे, भीतर, 'अणुजत्त' (महा) । ५ लक्ष्य करना, 'अणु जिणु अकारि सगीयं इत्थीहि' (कुमा), 'अणु धार सवुद्धं भमोत्तिणु इह असिम्मि सच्चविया' (गडड) । ६ योग्य, उचित, 'अणुजुत्ति' (सूत्र १, ४, १) । ७ वीप्सा, 'अणुवियण' (कुमा) । ८ वीच का भाग, 'अणु-दिसी' (पि ४१३) । ९ अनुकूल, हितकर, 'अणुधम्म' (सूत्र १, २, १) । १० प्रतिनिधि, 'अणुप्पयु' (निच्च २) । ११ पीछे, बाद, 'अणु-मज्जण' (गडड) । १२ बहुत, अत्यन्त, 'अणुवक' (मा ६२) । १३ मदद करना सहायता करना, 'अणुपरिहारि' (ठा ३, ४) । १४ निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है, देखो 'अणुकम्म', 'अणु-सरिस' ।
 अणु वि [अणु] १ थोड़ा, अल्प (परह २, ३) । २ छोटा (आचा) । ३ पु परमाणु (सम्म १३६) । ४ मय वि [मत] उत्तम कुल, श्रेष्ठ वंश (कम्प) । ५ विरिद्ध स्त्री [विरि] देखो देसविरिद्ध (कम्म १, १८) ।

अणु पु [दे] धान-विशेष, चावल की एक जाति (दे १, ५) ।
 अणु स्त्री [तनु] शरीर, 'सुअणु' (गा २६६) ।
 अणुअ देखो अणु = अणु (पात्र) ।
 अणुअ वि [अणु] अज्ञान, मूर्ख (गा १८४, ३४५) ।
 अणुअ पु [दे] १ आकृति, आकार । २ पुत्री धान्य-विशेष (दे १, ५२, आ १८) ।
 अणुअ वि [अनुग] अनुसरण करनेवाला, 'अधम्माराणु' (विपा १, १) ।
 अणुअ वि [अनुज] १ पीछे से उत्पन्न । २ पु छोटा भाई । ३ स्त्री छोटी बहिन (अभि ८२, पञ्च २८, १००) ।
 अणुअच सक [अनु + कृष्] पीछे लीचना । सक अणुअचिवि (भवि) ।
 अणुअप सक [अनु + कम्प] दया करना । क अणुअपणिज्ज (हास्य १४४) ।
 अणुअपा स्त्री [अनुकम्पा] दया, कल्याण (से ६, २४, गा १६३) ।
 अणुअपि वि [अनुकम्पिन्] दयालु, कल्याण करनेवाला (अभि १७३) ।
 अणुअत्तय वि [अनुवर्त्तक] अनुकूल आचरण करनेवाला, अनुसरण करनेवाला (विसे ३४०२) ।
 अणुअत्ति देखो अणुवत्ति (पुष्प ३२६) ।
 अणुअर वि [अनुचर] १ सहायताकारी, सह-चर (पात्र) । २ सेवक, नौकर (प्रासा) ।
 अणुअर वि [अनुचर] अनुसरण-कर्ता (हास्य १२१) ।
 अणुअल न [दे] प्रभात, सुबह (दे १, १६) ।
 अणुआ स्त्री [दे] लाठी (दे १, ५२) ।
 अणुआर पु [अनुकार] अनुकरण (नाट) ।
 अणुआरि वि [अनुकारिन्] अनुकरण करने-वाला (नाट) ।
 अणुआस पु [अनुकास] प्रसार, विकास (पासा १, १) ।
 अणुइअ पु [दे] धान्य-विशेष, चना (दे १, २१) ।
 अणुइअ देखो अणुदिप ।
 अणुङ्गण वि [अनुङ्गीर्ण] १ व्याप्त, मरा हुआ । २ नहीं गिरा हुआ, अपतित, 'अवाइएणपत्ता अणुइएणपत्ता निच्चु मजरटपडुपत्ता (औप) ।

अथुरण न [दे आस्तरण] विद्यौना (स - ६७) ।
 अथुरिय वि [दे. आस्त्रुत] विख्याया हुआ (स २३९, दे १, ११३) ।
 अथुवड न [दे] भल्लातक, भिलावां वृक्ष का फल (दे १, २३) ।
 अथेक वि [दे] आकस्मिक, अचिन्तित (से १२, ४७) ।
 अथोग्गह देखो अथुग्गह (सम ११) ।
 अथोग्गहण देखो अथुग्गहण (भग ११, ११) ।
 अथोडिय वि [दे] आकृष्ट, खीचा हुआ (महा) ।
 अथोभय वि [अस्तोभक] 'उत', 'वै' आदि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अद्रूपित (सूत्र) (बृह १) ।
 अथोवग्गह देखो अथुग्गह (परण १५) ।
 अथक न [दे] १ अकारण, अनवसर, अकस्मात् (पड्) । २ वि पसरनेवाला, फैलनेवाला (कुमा) ।
 अथवण पु [अथवण] चौथा वेद-शास्त्र (कप्प, राया १, ५) ।
 अथिर वि [अस्थिर] १ चंचल, चपल (कुमा) । २ अनित्य, विनश्वर (कुमा) । ३ अदृढ, शिथिल (शोध) । ४ निर्बल (वव २) । ५ मजबूती से नहीं बैठा हुआ, नहीं जमा हुआ (अभ्यास), 'अथिरस्स पुब्बगहियस्स, वत्तणा जं इह थिरोकरण' (पचा १२) । ०णाम न [नामान] नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७) ।
 अद सक [अद्] खाना, भोजन करना । अदइ, अदए (पड्) ।
 अदसण देखो अदसण (पचभा) ।
 अदसण पु [दे] चोर, डाकू (दे १, २६, पड्) ।
 अदंसिया स्त्री [अदंसिका] एक प्रकार की मोठी चीज (परण १७) ।
 अदक्खु वि [अदृष्ट] १ नष्ट होने वाला । २ असर्वज्ञ (सूत्र १, २,) ।
 अदक्खु वि [अदक्ष] अनिपुण, अज्ञान (सूत्र १, २, ३) ।
 अदक्खु वि [अदृश्य] १ नष्ट होने वाला,

अन्वा । २ असर्वज्ञ, 'अदक्खुव । दक्खुवाहिय सद्दसु अदक्खुदसणा' (सूत्र १, २, ३) ।
 अदण न [अदन] भोजन (बृह १) ।
 अदत्त वि [अदत्त] नहीं दिया हुआ (परण १, ३) । ०हार वि [०हार] चोर (आचा) । ०हारि वि [०हारिन्] चोर (सूत्र १, ५, १) । ०दाण न [०दान] चोरी (सम १०) । ०दाणवेरमण न [०दानविरमण] चोरी से निवृत्ति, तृतीय व्रत (परह २, ३) ।
 अदन्न देखो अदण (सिरि ३१०) ।
 अदन्ध वि [अदन्ध] अनल्प, बहुत (ज ३) ।
 अदय वि [अदय] निर्दय, निष्ठुर (निच २) ।
 अदिइ देखो अइइ (ठा २, ३) ।
 अदिण देखो अदत्त (ठा १) ।
 अदित्त वि [अदत्त] १ दर्प-रहित, नम्र (बृह १) । २ अहिंसक (शोध ३०२) ।
 अदिन्न देखो अदत्त (सम १०) ।
 अदिस्स देखो अहिस्स (सम ६०, सुपा १५३) ।
 अदिहि स्त्री [अधृति] अधीराई, धीरज का अभाव (पात्र) ।
 अदीण वि [अदीन] दीनता-रहित । ०सन्तु पु [०शत्रु] हस्तिनापुर का एक राजा (राया १, ८) ।
 अदु अ [दे] १ आन्तर्य-सूचक अव्यय, अय (आचा) । २ इससे (सूत्र १, २, २) ।
 अदु अ [दे] १ अथवा, या (सूत्र १, ४, २, १५, उत ८, १२, दसन्न २, १४) । २ अधिकारान्तर का सूचक (सूत्र १, ४, २, ७) ।
 अदुत्तर अ [दे] आन्तर्य-सूचक अव्यय, अय, वाद (राया १, १) ।
 अदुय न [अद्रुत] अ-शीघ्र, धीरे-धीरे (भग ७, ६) ०वधण न [०वन्धन] दीर्घ काल के लिए बन्धन (सूत्र २, २) ।
 अदुव अ [दे] या, अथवा, और, 'हिसेज अदुवा' पाणभूयाइ, तसे अदुव थावरें (दस ५, ५, आचा) ।
 अदोलि अ [दे] वि [अदोलिन्] स्थिर, निश्चल अदोलि (कुमा) ।
 अद वि [आर्द्र] १ गोला, भीगा हुआ, अकठिन (कुमा) । २ पुं इन नाम का एक

राजा । ३ एक प्रसिद्ध राजकुमार और पीछे से जैन मुनि । ४ वि आर्द्रराजा के वंशज । ५ नगर-विशेष (सूत्र २, ६) । ०कुमार पु [०कुमार] एक राजकुमार और बाद में जैन मुनि, 'अदकुमारो ददम्पहारी अ' (पडि) । ०मुत्था स्त्री [०मुस्ता] कन्द-विशेष, नागर मोथा (अ २०) । ०मलग न [०मलक] १ हरा आमला । २ पीलु-वृक्ष की कली (वर्म २) । ३ शण वृक्ष की कली (पव ४) । ०रिट्ट पु [०रिट्ट] कमल कौआ (आवम) ।
 अद पु [अद] १ मेघ, वर्षा, बारिश (हे २, ७६) । २ वर्ष, सवसर, संवत् (सुर १३, ७०) ।
 अद पु [अद] आकाश (भग २०, २) ।
 अद पुन [दे] १ परिहास । २ वर्णन (सक्ति ४७) ।
 अद सक [अद्] मारना, पीटना (वव १०) ।
 अदइअ न [अद्वैत] १ भेद का अभाव । २ वि भेद-रहित ब्रह्म वगैरह (नाट) ।
 अदइज्ज वि [आर्द्रिय] १ आर्द्रकुमार-सम्बन्धी । २ इस नाम का 'सूत्रकृताज्ज' सूत्र का एक अध्ययन (सूत्र २, ६) ।
 अदसण न [अदर्शन] १ दर्शन का निषेध, नहीं देखना (सुर ७, २४८) । २ वि परोक्ष, जिसका दर्शन नहीं हो, 'एकपएचिय हाहिंति मज्ज अदसणा इहिं' (सुपा ६१७) । ३ नहीं देखनेवाला, अन्वा । ४ 'धीण्डी' या अथम निद्रा वाला (गच्छ १, पव १०७) । ०भूअ, ०हूय वि [०भूत] जो घटश्य हुआ हो (सुर १०, ५६, महा) ।
 अदण } वि [दे] आकुल, व्याकुल (दे १, अदण } १५, बृह १, निच १०) ।
 अदन्न देखो अदण (सुख १, १४) ।
 अदव वि [आद्रव] गला हुआ (आव ६) ।
 अदव न [अद्रव्य] अवस्तु, वस्तु का अभाव, (पचा ३) ।
 अदह सक [आ + द्रह] उबालना, पानी-सेल वगैरह को खूब गरम करना । अदहेइ, अदहेमि, संक अदहेत्ता (जवा) ।
 अदहिय वि [आहित] खा हुआ, स्थापित (विपा १, ६) ।

द्वियन्व, अणुट्टेअ (सुपा ५३७, सुर १४, ८५)।

अणुट्टाह वि [अनुष्टायिन्] अनुष्ठान करने-वाला (भाचा)।

अणुट्टाण न [अनुष्ठान] १ कृति। २ शास्त्रोक्त विधान (भाचा)।

अणुट्टाण न [अनुष्ठान] क्रिया का अभाव (उवा)।

अणुट्टावण न [अनुष्ठान] अनुष्ठान कराना (कस)।

अणुट्टिय वि [अनुष्ठित] विधि से सपादित, विहित, किया हुआ (पड, सुर ४, १६६)।

अणुट्टिय वि [अनुष्ठित] १ वैठा हुआ। २ भालसी, प्रमादी (भाचा)।

अणुट्टियन्व देखो अणुट्टा।

अणुट्टुम न [अनुट्टुप्] एक प्रसिद्ध छंद, 'पञ्चरत्नरगणराए अणुट्टुभाए हवति दस सहस्सा (सुपा ६५६)।

अणुट्टेअ देखो अणुट्टा

अणुण देखो अणुणी। अणुणह (भवि)।

अणुणंत देखो अणुणी।

अणुणय पु [अनुनय] विनय, प्रार्थना (महा, भमि ११९)।

अणुणाह वि [अनुनादिन्] प्रतिव्वनि करने वाला, 'गन्धियमहस्स अणुणाइणा' (कपा)।

अणुणाय पु [अनुनाद] प्रतिव्वनि, प्रतिशब्द (विने ३५०४)।

अणुणाय वि [अनुज्ञात] अनुमत, अनुमोदित (प३)।

अणुणास पुन [अनुनास] अनुनासिक, जो नाक में बौना जाता है वह अक्षर। २ वि गानुस्वार, अनुस्वार-युक्त (ठा ७), 'कागस्सर-भणुणास च' (जीव ३ टी)।

अणुणासिअ पु [अनुनासिक] देखो ऊपर का फन्ना भय (नजा ६)।

अणुणी गत [अनु + नी] १ अनुनय करना, निनय करना, प्रार्थना करना। २ समझाना, दिनास देना, मान्यना देना। वहु अणुणंत, 'पुराहिय त कममाणाणत' (उत्त १४, भवि), अणुणंत (गा ६०२)। वहु अणुणिज्जत, अणुणिज्जमाग, अणुणीअमाग (सुपा ३६७, ३, २, १६, ति ४३६)।

अणुणीअ वि [अनुनीत] जिसका अनुनय किया गया हो वह (दे ८, ४८)।

अणुणंत देखो अणुणी।

अणुण्णय वि [अनुन्नत] १ नीचा, नम्र (दस ५, १)। २ गर्वरहित, निरभिमानी, 'एत्थवि भिक्खु अणुण्णए विणीए' (सूत्र १, १६)।

अणुण्णव सक [अनु + ज्ञापय] १ अनु-मति देना। २ आज्ञा देना, हुकुम देना। कर्म अणुण्णविज्जइ (उवा)। वहु अणुण्णवेमाण (ठा ६)। क अणुण्णवेयव्व (श्रोघ ३८५ टी)। सहु अणुण्णवित्ता, अणुण्णविय (आवम, आचा २, २, ६)।

अणुण्णवणया } स्त्री [अनुज्ञापना] १ अनु-अणुण्णवणा } मति, सम्मति। २ आज्ञा, फरमाइश (सम ४४, श्रोघ ३८४ टी)।

अणुण्णवणी स्त्री [अनुज्ञापनी] अनुमति-प्रकाशक भाषा, अनुमति लेने का वाक्य (ठा ४, ३)।

अणुण्णा स्त्री [अनुज्ञा] १ अनुमति, अनुमोदन (सूत्र २, २)। २ आज्ञा। कटप पुं [कल्प] जैन साधुओं के लिए वस्त्र-पात्रादि लेने के विषय में शास्त्रीय विधान (पञ्चम)।

अणुण्णा स्त्री [अनुज्ञा] १ पठन-विषयक गुरु-आज्ञा-विशेष (अणु ३)। २ सूत्र के अर्थ का अध्ययन (वव १)।

अणुण्णाय वि [अनुज्ञात] १ जिसको आज्ञा दी गई हो वह। २ अनुमत, अनुमोदित (ठा ३, ४)।

अणुण्ह वि [अनुष्ण] ठंडा, जो गरम नहीं है वह (पि ३१२)।

अणुण्ह पु [अनुतट] भेद, पदार्थों का एक जाति का पृथकरण, जैसे सतप्त लोहे को हथौड़े से पीटने से स्फूर्लिंग (चिनगारी) पृथक् होते हैं (ठा ५)।

अणुण्हिया स्त्री [अनुतटिका] १ ऊपर देखो (परण ११)। २ तलाव, द्रव आदि का भेद (भास ७)।

अणुण्णप अक [अनु+तप्] अनुपात करना, पछताना। अणुण्णपड (स १८४)।

अणुण्णप्पि वि [अनुतापिन्] पश्चात्ताप करने-वाला (वव)।

अणुताव सक [अनु + तापय] तपाना। सहु अणुतावित्ता (सूत्र २, ४, ०)।

अणुताव पु [अनुताप] पश्चात्ताप (पाम्, म १८४)।

अणुतावय वि [अनुतापक] पश्चात्ताप करने-वाला (सूत्र २, ७, ८)।

अणुतावि देखो अणुणप्पि (उप ७२८ टी)। अणुत्त वि [अनुत्त] अकथित (पच ५)।

अणुत्तंत देखो अणुवत्त।

अणुत्तप्प वि [अनुत्त्रप्य] १ परिपूर्ण शरीर। २ पूर्ण शरीरवाला, 'होइ अणुत्तप्पो सो अवि-गलइदियपडिप्पुणो' (वव २)।

अणुत्तर वि [अनुत्तर] १ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम (ठा १०)। २ एक सर्वोत्तम देवलोक का नाम (अनु)। ३ छोटा, 'अणुत्तरो भाया' (पउम ६, ४)। गगा स्त्री [अथा] एक पृथिवी, जहाँ मुक्त जीवों का निवास है (सूत्र १, ६)।

अणुत्तर वि [अनुत्तर] १ परिपूर्ण शरीर। २ पूर्ण शरीरवाला, 'होइ अणुत्तप्पो सो अवि-गलइदियपडिप्पुणो' (वव २)।

अणुत्तर वि [अनुत्तर] १ सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम (ठा १०)। २ एक सर्वोत्तम देवलोक का नाम (अनु)। ३ छोटा, 'अणुत्तरो भाया' (पउम ६, ४)। गगा स्त्री [अथा] एक पृथिवी, जहाँ मुक्त जीवों का निवास है (सूत्र १, ६)। गणाणि वि [अज्ञानिन्] केवलज्ञानी (सूत्र १, २, ३)। विमाण न [विमान] एक सर्वोत्कृष्ट देवलोक (भग ६, ६)। विवाइय वि [विपातिक] अनुत्तर देवलोक में उत्पन्न (अनु)। विवाइयदसा स्त्री व [विपातिकदशा] नववाँ जैन अग-ग्रथ (अनु)।

अणुत्थाण देखो अणुट्टाण (स ६४६)।

अणुत्थारय वि [अनुत्साह] हतोत्साह, निराश (कुमा)।

अणुदत्त पु [अनुदात्त] नीचे में बोला जाने-वाला स्वर (व्ह १)।

अणुदय पु [अनुदय] १ उदय का अभाव। २ कर्म-फल के अनुभव का अभाव (कम्म २, १३, १४, १५)।

अणुदवि न [दे] प्रमात, सुबह (दे १, १६)।

अणुदिअ वि [अनुदित] जिसका उदय न हुआ हो (भग)।

अणुदिअस न [अनुदिवस] प्रतिदिन, हमेशा (नाट)।

अणुदिज्जंत वि [अनुदीयमान] उदय में न आता हुआ (भग)।

अणुदिग न [अनुदिन] प्रतिदिन, हमेशा (कुमा)।

अणुदिण्ण वि [अनुदित] १ उदय को अणुदिन्न १ अग्रात। २ फल-दान में अतत्पर

१०) । °काय पु [°काय] पानी के जीव (इं १३) ।

अपइट्टाण देखो अप्पइट्टाण (आचा, ठा ४, ३) ।

अपइट्टिअ पु [अप्रतिष्ठित] १ नरक-स्थान विशेष (विन्द २६) । देखो अप्पइट्टिअ ।

अपइट्टिय देखो अप्पइट्टिय (ठा ४, १) ।

अपएस वि [अप्रदेश] १ निरश, अव्यव-रहित (भग २०, ५) । २ पु खराब स्थान (पंचा ७) ।

अपग पु [अपाङ्ग] १ नेत्र का प्रान्त भाग । २ तिलक । ३ वि हीन अग वाला (नाट) ।

अपंडिअ वि [दे] अनष्ट, विद्यमान (पड्) ।

अपंडिअ [अपण्डित] १ सद्बुद्धि-रहित (बृह १) । २ मूर्ख (अच्छ ५) ।

अपकरिस पु [अपकर्ष] ह्रास (धर्मस ८३७) ।

अपगंड वि [अपगण्ड] १ निर्दोष । २ न. फेन, पानी का भाग (सूअ १, ३) ।

अपचय पुं [अपचय] अपकर्ष, हीनता (उत्त १) ।

अपच्च देखो अवच्च, 'अपचारिण्विसेसारिण सत्तारि' (पि ३६७) ।

अपच्चय पु [अप्रत्यय] अविश्वास (पएह १, २) ।

अपच्चल वि [अप्रत्यल] १ असमर्थ । २ अयोग्य (नचू ११) ।

अपच्छ वि [अपथ्य] १ अ-हितकर (पउम ८२, ७२) । २ न. नहीं पचनेवाला भोजन, 'धेवेण अपच्छासेवणेषा रोमुध्व वड्ढे' (सुपा ४३८) ।

अपच्छिम वि [अपाश्चिम] अन्तिम (एदि, पाअ, उप २६४ टी) ।

अपज्जत्त } वि [अपर्याप्त] १ अपर्याप्त, अपज्जत्तग } असमर्थ (गउड) । २ पर्याप्ति (आहारादि ग्रहण करने की शक्ति) से रहित (ठा २, १, अर्ध ४) । °नाम न [°नामन्] नाम-कर्म को एक भेद (सम ६७) ।

अपज्जवसिय वि [अपर्यवसि] १ गारा-रहित (सम्म ६१) । २ अन्त-रहित (ठा १) ।

अपडिच्छर वि [दे] जड-बुद्धि, मूर्ख (दे १, ४३) ।

अपडिण्ण } वि [अप्रतिज्ञ] १ प्रतिज्ञा-अपडिन्न } रहित, निश्चय-रहित (आचा) ।

२ राग-द्वेष आदि बन्धनों से वर्जित (सूअ १, ३, ३) । ३ फल की इच्छा न रखकर अनुष्ठान करनेवाला, निष्काम, 'गन्धेषु वा चन्दण-माहु सेट्ठ, एव सुणीणां अपडिन्नमाहु' (सूअ १, ६) ।

अपडिपोग्गल वि [अप्रतिपुद्गल] दरिद्र, निर्धन (निचू ५) ।

अपडिबद्ध वि [अप्रतिबद्ध] १ प्रतिबन्ध-रहित, बेरोक, 'अपडिबद्धो अनलो व्व' (पएह २, ५) । २ आसक्ति-रहित (पव १०४) ।

अपडिवाइ देखो अप्पडिवाइ (ठा ६, ओध ५३२, एदि) ।

अपडिसलीण वि [अप्रतिसलीण] असयत, इन्द्रिय आदि जिसके काबू में न हो (ठा ४, २) ।

अपडिहट्टु अ [अप्रतिहृत्य] न दे कर (कस, बृह ३) ।

अपडिहय देखो अप्पडिहय (राया १, -१६) ।

अपडीकार वि [अप्रतीकार] इलाज-रहित, उपाय-रहित (पएह १, १) ।

अपडुप्पण } वि [अप्रत्युत्पन्न] १ अ-वर्त-अपडुप्पन्न } मान, अ-विद्यमान (पि १६३) । २ प्रतिपत्ति में अ-कुशल (वव ६) ।

अपणट्ट वि [अप्रनष्ट] नाश को अप्रान्त (सुर ४, २४०) ।

अपत्त देखो अप्पत्त (बृह १, ठा ५, २, सूअ १, १४) ।

अपत्तिअत वक्क [अप्रतियत्] विश्वास नहीं करता हुआ (गा ६७८, पि ४८७) ।

अपत्तिय देखो अप्पत्तिय (भग १६, ३, पचा ७) ।

अपत्थ देखो अप्पत्थ (उत्त ७, पंचा ७) ।

अपभासिय देखो अवभासिय = अपमापित (वव १) ।

अपमत्त देखो अप्पमत्त (आचा) ।

अपमाण न [अप्रमाण] १ झूठ, असत्य (आ १२) । २ वि. ज्यादा, अधिक (उत्त २४) ।

अपमाय वि [अप्रमाद] १ प्रमाद-रहित ।

२ पु प्रमाद का अभाव, सावधानी (पएह २, १) ।

अपय वि [अपय] १ पाँव रहित, वृक्ष, द्रव्य, भूमि वगैरह पैर रहित वस्तु (राया १, ८) । २ पुं मुक्तात्मा, 'अपयस्स पय नत्थि' (आचा) । ३ सूत्र का एक दोष (बृह १, विसे) ।

अपय स्त्री [अप्रज] सन्तानरहित (बृह १) ।

अपर देखो अवर (निचू २०) । २ वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध अवान्तर सामान्य (विसे २४६) ।

अपरच्छ वि [अपराक्ष] असमझ, परोक्ष (पएह १, ३) ।

अपरद्ध देखो अवरज्ज (कप्प) ।

अपरतिया स्त्री [अपरान्तिका] छन्द-विशेष (अजि ३४) ।

अपराइय वि [अपराजित] १ अ-परिभूत (पएह १, ४) । २ पु सातवें बलदेव के पूर्व-जन्म का नाम (सम १५३) । ३ भरतसेन का छठवाँ प्रतिवासुदेव (सम १५४) । ४ उत्तम-पत्ति के देवों की एक जाति (सम ५६) । ५ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । ६ एक महाप्रह (ठा २, ३) । ७ न अनुत्तर देव-लोक का एक विमान—देवावास (सम ५६) । ८ रुक्क पर्वत का एक शिखर (ठा ८) । ९ जम्बूद्वीप की जगती का उत्तर द्वार (ठा ४, २) ।

अपराइया स्त्री [अपराजिता] १ विदेह-वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३) । २ आठवें बलदेव की माता (सम १५२) । ३ अगारक ग्रह की एक पटरानी का नाम (ठा ४, १) । ४ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ८) । ५ ओपधि-विशेष (ती ७) । ६ अजनाद्रि पर्वत पर स्थित एक पुष्करिणी (ती २) ।

अपराजिय देखो अपराइय (कप्प, सम ५६, १०२, ठा २, ३) ।

अपराजिया देखो अवराइया (ठा २, ३) ।

अपराजिया स्त्री [अपराजिता] १ भगवान् मल्लिनाथ की दोहा-शिबिका (विचार १२०) । २ पक्ष की दशवी रात (सुज १०, १४) ।

अपरिग्गह वि [अपरिग्रह] १ धन-धान्य आदि परिग्रह से रहित (पएह २, ३) । २

अणुपालिय वि [अनुपालित] रक्षित, प्रति-
पालित (ठा ८) ।

अणुपास देखो अणुपस्स । वक्क अणुपासमाण
(दसत्त २) ।

अणुपिट्ठ न [अनुपिट्ठ] अनुक्रम, 'अणुपिट्ठ-
मिद्धा' (सम्म) ।

अणुपिहा देखो अणुपेहा (द्रव्य ३५) ।

अणुपुंख न [अनुपुंख] मूल तक, अन्त-पर्यन्त,
'अणुपुखमावडतावि आबया तस्स ऊसवा ह्वति'
(कुप्र ३३) ।

अणुपुण्व वि [अनुपुण्व] क्रमवार, आनुक्रमिक
(ठा ५, ५) । किंवि क्रमश (पात्र) । 'सो
[शस्] अनुक्रम से (आचा) ।

अणुपुण्व न [आनुपुण्व] क्रम, परिपाटी, अनु-
क्रम (राय) ।

अणुपुण्वी स्त्री [आनुपूर्वी] ऊपर देखो (पात्र) ।
अणुपेक्क्या स्त्री [अनुपेक्षा] भावना, चिन्तन,
विचार (पत्रम १४, ७७) ।

अणुपेहण न [अनुपेक्षण] ऊपर देखो (उप
१४२ टी) ।

अणुपेहा स्त्री [अनुपेक्षा] ऊपर देखो (पि
३२३) ।

अणुपेहि वि [अनुपेक्षिन्] चिन्तन-कर्ता
(सूत्र १, १०, ७) ।

अणुपेइन्न वि [अनुपेकीर्ण] एक दूसरे से
मिना हुआ, मिश्रित (कप्प) ।

अणुपण्णी सक [अनुप्र + णी] १ प्रणय
करता । २ प्रसन्न करता । वक्क अणुपणत
(उप पृ २८) ।

अणुपणय [अनुप्रप्रथ] सन्तोषी, अल्प परि-
ग्रह वाला (ठा ६) ।

अणुपणय वि [अनुप्रप्रथ] ऊपर देखो
(ठा ६) ।

अणुपणग वि [अनुप्रपन्न] अविद्यमान (नीच
५) ।

अणुपपत्त देनो अणुपत्त (कप्प) ।

अणुपपदा सव [अनुप्रपदा] दान देना, फिर-
फिर देना । अणुपपदेद (कस) । क अणुपप-
दापय (पन) । हेक्क अणुपपदाउ (उवा) ।

अणुपपदाण न [अनुप्रदान] दान, फिर-फिर
दान देना (भाव ६) ।

अणुपपभु पु [अनुप्रभु] स्वामी के स्थानापन्न,
प्रतिनिधि (निच्च २) ।

अणुपपया देखो अणुपपदा । अणुपपएइ (कस) ।
हेक्क अणुपपयाउ (उवा) ।

अणुपपयाण देखो अणुपपदाण (आचा) ।

अणुपपवत्त सक [अनुप्र + वृत्] अनुसरण
करता । हेक्क अणुपपवत्तए (विसे २२०७) ।

अणुपपवाइत्तु वि [अनुप्रवाचयित्] }
अणुपपवाएत्तु } अध्यापक, पाठक, पढानेवाला
(ठा ५, १, गच्छ १) ।

अणुपपवाद पु [अनुप्रवाद] कथन (सूत्र २,
७, १३) ।

अणुपपवाय सक [अनुप्रवाचय्] पढाना ।
वक्क अणुपपवाएमाण (ज ३) ।

अणुपपवाय न [अनुप्रवाद] नववां पूर्व, बार-
हवें जैन अग्र-ग्रन्थ का एक अंश-विशेष (ठा ६) ।

अणुपपविट्ठ देखो अणुपविट्ठ (कस) ।

अणुपपवित्ति स्त्री [अनुप्रवृत्ति] अनुप्रवेश,
अनुगम (विसे २१६०) ।

अणुपपविस देखो अणुपविस । अणुपपविसइ
(उवा) । सक अणुपपवेसेत्ता (निच्च १) ।

अणुपपवेस देखो अणुपवेस (नाट) ।

अणुपपवेसण न [अनुप्रवेशन] देखो अणुप-
वेस (नाट) ।

अणुपपसाद (शौ) सक [अनुप्र + सादय्] }
प्रसन्न करना । अणुपपसादेदि (नाट) ।

अणुपपसूय वि [अनुप्रसूत] उत्पन्न, पैदा
किया हुआ (आचा) ।

अणुपपाइ वि [अनुपातिन्] युक्त, सबद्ध,
सबन्धी (निच्च १) ।

अणुपपिय वि [अनुप्रिय] अनुकूल, इष्ट (सूत्र
१, ७) ।

अणुपपेत वि [अनुप्रयन्] दूर करता,
हटाता हुआ,

जम्मि अविस्तरणहियत्तरोण ते

गारव वलग्गति ।
त विसममणुपपेतो गव्याए विही खलो होइ'
(गडड) ।

अणुपपेच्छ देखो अणुपपेह,

'तह पुण्वि कि न कय, न वाहए

जेण मे समत्थोवि ।

एण्ह कि कस्स व कुप्पिमोत्ति धीरा ।

अणुपपेच्छ' (उव) ।

अणुपपेसिय वि [अनुप्रेषित] पीछे से भेजा
हुआ (नाट) ।

अणुपपेह सक [अनुप्र + ईत्] चिन्तन करना,
विचारना अणुपपेहति (पि ३२३) । क अणु-
पपेहियव्व (पसू १) ।

अणुपपेहा स्त्री [अनुप्रेक्षा] चिन्तन, भावना,
विचार, स्वाध्याय-विशेष (उत्त २९) ।

अणुपपास पु [अनुपपार्श] अनुभाव, प्रभाव,
'लोहस्सेव अणुपपासो मत्ते अन्नयरामवि'
(दस ६) ।

अणुपफुसिय वि [अनुप्रोञ्जित] पोछा हुआ,
साफ किया हुआ (स ३४४) ।

अणुवध सक [अनु + वन्ध] १ अनुसरण
करना । २ सबन्ध बनाने रखना । अणुवधति
(उत्तर ७१) । वक्क अणुवधत (वेणी १८३) ।
कवक्क अणुवधीअमाण, अणुवधिञ्जमाण
(नाट) । हेक्क अणुवंधिट्ठु (शौ) (मा ६) ।

अणुवध पु [अनुवन्ध] १ सततपन, निरन्त-
रता, विच्छेद का अभाव (ठा ६, उवर १२८) ।
२ सबन्ध (स १३८, गडड) । ३ कर्मों का
सबन्ध (पचा १५) । ४ कर्मों का विपाक,
परिणाम (उवर ४, पचा १८) । ५ स्नेह,
प्रेम (स २७६),

'नयणाएण पडड वज्ज, अहवा वज्जस्स

वड्डिल किपि ।

अणुवधजणेवि विट्ठे, अणुवध जाणि कुव्वति'
(सुर ४, २०) । ६ शास्त्र के आरम्भ में कहने
लायक अधिकारी, विषय, प्रयोजन और सबन्ध
(भाव १) । ७ निबन्ध, आग्रह (स ४५८) ।

अणुवधअ वि [अनुवन्धक] अनुवन्ध करने-
वाला (नाट) ।

अणुवधण न [अनुवन्धन] अनुकूल बन्धन
(उत्त २६, ४५, सुख २९, ४५) ।

अणुवधणा स्त्री [अनुवन्धना] अनुसन्धान,
विस्मृत अर्थ का सन्धान (पचा १२, ४५) ।

अणुवधि वि [अनुवन्धिन्] अनुवन्धवाला,
अनुवन्ध करनेवाला (धर्म २, स १२७) ।

अणुवंधिअ न [दे] हिकारोग, हिचकी (दे
१, ४४) ।

अणुवधेह वि [अनुवन्धिन्] विच्छेद-रहित,
अनुगमवाला, अविनश्वर (उप २३३) ।

अपोरिसिय } वि [अपौरुषिक] पुरुष से
अपोरिसीय } ज्यादा परिमाण वाला, अगाध
(शाया १, ५, १४)।

अपोरिसीय वि [अपौरुषेय] पुरुष से नहीं
बनाया हुआ, नित्य (ठा १०)।

अपोह सक [अप + ऊह्] निश्चय करना,
निश्चय रूप से जानना। अपोहए (विसे
५६१)।

अपोह पु [अपोह] १ निश्चय-ज्ञान (विसे
३६६)। २ वृथभाव, भिन्नता (शोध ३)।

अपप देखो अत्त = आत्म, 'अप्पोलभनिमित्त
पढमस्स एयायज्जयणस्स अयमट्ठे पएणत्तेत्ति
वेमि' (शाया १, १)।

अपप वि [अल्प] १ थोड़ा, स्तोक (सुपा
२८०, स्वप्न ६७)। २ अभाव (जीव ३,
भग १४, १)।

अपप पु [आत्मन्] १ आत्मा, जीव, चेतन
(शाया १, १)। २ निज, स्व, 'अप्पया
अप्पणो कम्मक्खय करित्तए' (शाया १, ५)।
३ देह, शरीर (उत्त ३)। ४ स्वभाव,
स्वरूप (आचा)। ५ 'वाइ वि [°वातिन्]
आत्म-हत्या करनेवाला (उप ३५७ टी)।
°छट वि [°च्छन्द] स्वैरी, स्वच्छन्दी (उप
८३३ टी)। °ज्ज वि [°ज्ज] १ आत्मज्ञ
(हे २, ८३)। २ स्वाधीन (निचू १)।
°ज्जोइ पु [°ज्जोतिस्] ज्ञानस्वरूप,
'किज्जोइरय पुरिसो अप्पज्जोइ त्ति णिहिट्ठो'
(विसे)। °णु वि [°णु] आत्म-ज्ञानी
(पड्)। °वस वि [°वस] स्वतन्त्र, स्वा-
धीन (पाम्म, पउम ३७, २२)। °वह पुं
[°वध] आत्म-हत्या, अपघात (सुर २,
१६६, ५, २३७)। °वाइ वि [°वादिन्]
आत्मा से अतिरिक्त दूसरे पदार्थ को नहीं
जाननेवाला (एदि)।

अपप पु [दे] पिता, बाप (दे १, ६)।

अपप सक [अपेय] अपण करना, भेंट
करना। अपेय (हे १, ६३)। अप्पअइ
(नाट)। मक्क अप्पिअ (सुपा २८०)।
कू अप्पेय (सुपा २२५, ५१६)।

अपपआस देतो अप्पगास (नाट)।

अपपआस कू [अपि] आलिङ्गन करना।
अपपआसइ (पड्)।

अपपइट्ठण पुन [अप्रतिष्ठान] १ मोक्ष,
मुक्ति (आचा)। २ सातवी नरक-भूमि का
बीचला आवास (सम २, ठा ५, ३)।

अपपइट्ठिअ वि [अप्रतिष्ठित] १ अप्रति-
बद्ध। २ अशरीरी, शरीर-रहित (आचा
२, १६, १२)। देखो अपपइट्ठिअ।

अपपउल्लिय वि [अपक्वौषधि] नहीं पकी
हुई फल-फलहरी (स ५०)।

अपपओजग वि [अप्रयोजक] अ-गमक,
अ-निश्चयक (हेतु) (वर्मस १२२३)।

अपपभरि वि [आत्मम्भरि] अकेलपेह,
स्वार्थी (उप ५७०)।

अपपकंप वि [अप्रकम्प] निश्चल, स्थिर
(ठा १०)।

अपपकेर वि [आत्मीय] स्वकीय, निजो
(प्रामा)।

अपपक वि [अपक्व] नहीं पका हुआ, कच्चा
(सुपा ४१३)।

अपपग देखो अप्प (आव ४, आचा)।

अपपगास पु [अप्रकाश] प्रकाश का अभाव,
अन्वकार (निचू १)।

अपपगुत्ता ली [दे] कपिकच्छू, कौच बुझ
(दे १, २६)।

अपपजाणुअ वि [आत्मज्ञ] आत्मा का
जानकार (प्राक १८)।

अपपजाणुअ वि [अल्पज्ञ] अज्ञ, मूर्ख (प्राक
१८)।

अपपकम्म वि [दे] आत्म-वश, स्वाधीन (दे
१, १४)।

अपपडिआर वि [अप्रतिहार] इलाज-रहित,
उपाय-रहित (मा ४३)।

अपपडिकटय वि [अप्रतिकण्टक] प्रतिपक्ष-
शून्य, प्रतिस्पर्धि-रहित (राय)।

अपपडिकम्म वि [अप्रतिकर्मन्] सत्कार-
रहित, परिष्कार-वर्जित, 'सुएणागारे व अप्प-
डिकम्मे' (पएह २, ५)।

अपपडिक्वंत वि [अप्रतिक्रान्त] दोष से
अनिवृत्त, अत-नियम में लगे हुए दूषणों की
जिसने शुद्धि न की हो वह (शोप)।

अपपडिकुट्ट वि [अप्रतिक्रुष्ट] अनिवारित,
नहीं रोका हुआ (ठा २, ५)।

अपपडिचक्र वि [अप्रतिचक्र] अतुल्य,
असमान (एदि)।

अपपडिण्ण } देखो अपडिण्ण (आचा)।
अपपडिन्न }

अपपडिबध पु [अप्रतिबन्ध] १ प्रतिबन्ध
का अभाव। २ वि प्रतिबन्ध-रहित (सुपा
६०८)।

अपपडिबद्ध देखो अपडिबद्ध (उत्त २६,
२१८)।

अपपडिबुद्ध वि [अप्रतिबुद्ध] १ अ-ज
२ कोमल, सुकुमार (अभि १६१)।

अपपडिम वि [अप्रतिम] असाधारण
पम (उप ७६८ टी, सुपा ३५)।

अपपडिरुव वि [अप्रतिरूप] ऊपर से
७२८ टी)।

अपपडिलिद्ध वि [अप्रति] (शाया १, १)।

अपपडिलेस्स वि [अप्रति] देव के पूर्व
मनो-बलवाला (शोप)। ३ भरतसेव

अपपडिलेहण न [अप्रति] ४
क्षण, अनवलोकन, नहीं देख (सम ५६)।

अपपडिलेहणा ली [अप्रति] देव-
देखो (कम्प)।

अपपडिलेहिय वि [अप्रतिलेखि] १
क्षित, अनवलोकित, नहीं देखा हुआ

अपपडिलोम वि [अप्रतिलोम] अतु
२५, ७, अभि २४)।

अपपडिवरिय पु [अप्रतिवृत] प्रदीप काल
(वृह १)।

अपपडिवाइ वि [अप्रतिपातिन्] १ जिनका
नाश न हो ऐसा, नित्य (सुर १४, २६)। २
अवधिज्ञान का एक भेद, जो केवल ज्ञान को
बिना उत्पन्न किये नहीं जाता (विसे)।

अपपडिहत्थ वि [अप्रतिहस्त] असमान,
अद्वितीय (से १३, १२)।

अपपडिहय वि [अप्रतिहृत] १ किसी में ना
रुका हुआ (पएह २, ५)। २ अतएइल,
अवाधित, 'अपपडिहयमामणे' (शाया १, १६)।

३ विस्वादा-रहित 'अपपडिहयवदनाएदसणव'
(भग १, १)।

अपपडीबद्ध देखो अपडिबद्ध, 'निम्ममनिर-
कारा निम्मयत्तरीरेवि अप्पडीबद्धा' (संया ६०)।

अणुयत्त देखो अणुवत्त = अनु + वृत् । अणु-यत्तइ (भवि) । वक्क. अणुयत्तत, अणुयत्त-माण (पचमा, विसे १४५१) । संक. अणु-यत्तिकाण (गडड) ।

अणुयत्त देखो अणुवत्त = अनुवृत्त (भवि) । अणुयत्तणा छी [अनुवर्तना] १ बीमार की सेवा-शुभूपा करना (बृह १) । २ अनुसरण । ३ अनुकूल वर्तन (जीव १) ।

अणुयत्तिय वि [अनुवृत्त] अनुकूल किया हुआ, प्रसादित (सुपा १३०) ।

अणुयत्तिय वि [अनुचरित] आचरित, अनु-ष्ठित (शाया १, १) ।

अणुया देखो अणुण्णा (सूत्र २, १) ।

अणुयाव देखो अणुताव (स १८३) ।

अणुयास पु [अनुकाश] विशेष विकास (शाया १, १) ।

अणुरंगा छी [दे] गाडी (बृह १) ।

अणुरंगि वि [अनुरङ्गिन्] अनुकरण-कर्ता (सुज १०, ८) ।

अणुरंगिय वि [अनुरङ्गित] रगा हुआ (भवि) ।

अणुरज सक [अनु + रञ्ज्य्] अनुरागी करना, प्रीणित करना । वक्क. अणुरजअत (नाट) । संक. अणुरजिअ (नाट) ।

अणुरजणन [अनुरञ्जन] राग, आसक्ति (विसे २६७७) ।

अणुरजिएह्य } वि [अनुरञ्जित] अनुरक्त
अणुरजिय } किया हुआ, अनुरागी बनाया हुआ (ज ३, महा) ।

अणुरक्क वि [अनुरक्त] अनुराग-प्राप्त, प्रेम-प्राप्त (नाट) ।

अणुरज्ज अक [अनु + रञ्ज्] अनुरक्त होना, प्रेमी होना; 'अणुरज्जित् खणेषु जुवईड सणेषु पुण विरज्जित्' (महा) ।

अणुरत्त देनो अणुरक्क (शाया १, १६) ।

अणुरमिय नि [अनुरसित] बोलाया हुआ, मान (शाया १, ६) ।

अणुराइ } नि [अनुरागिन्] अनुराग-
अणुराइ } वाना, प्रेमी (स ३३६, महा;
सुर १३, १००) ।

अणुराग पु [अनुराग] प्रेम, प्रीति (सुर ४, २०८) ।

अणुरागय वि [अन्वागत] १ पीछे आया हुआ । २ ठीक-ठीक आया हुआ । ३ न स्वागत (भग २, १) ।

अणुरागि देखो अणुराइ (महा) ।

अणुराय देखो अणुराग (प्रासू १११) ।

अणुराहा छी [अनुराधा] नक्षत्र-विशेष (सम ६) ।

अणुरोध सक [अनु + रुध्] १ अनुरोध करना । २ स्वीकार करना । ३ आज्ञा का पालन करना । ४ प्रार्थना करना । ५ अक. अधीन होना । कर्म अणुरोधिअइ (हे ४, २४८ प्रामा) ।

अणुरूअ } वि [अनुरूप] १ योग्य, उचित
अणुरूव } (से ६, ३६) । २ अनुकूल (सुपा ११२) । ३ सदृश, तुल्य (शाया १, १६) ।

४ न. समानता, योग्यता (सम्म) ।

अणुरोह पु [अनुरोध] १ प्रार्थना, 'ता ममा-णुरोहेण एत्थ घरे निच्चमेव आगतव्व' (महा) । २ दाक्षिण्य, दक्षिणता (पाअ) ।

अणुरोहि वि [अनुरोधिन्] अनुरोध करने-वाला (स १२१) ।

अणुलग्ग वि [अनुलग्ग] पीछे लगा हुआ (गा ३४५, सुर ३, २२६, सूक्त ७) ।

अणुलद्ध वि [अनुलद्ध] १ पीछे से मिला हुआ । २ फिर से मिला हुआ (नाट) ।

अणुलाव पु [अनुलाप] फिर-फिर बोलना (ठा ७) ।

अणुलिप सक [अनु + लिप्] १ पोतना, लेप करना । २ फिर से पोतना । संक. अणु-लिपित्ता (पि ५८२) । हेक. अणुलिपित्तए (पि ५७८) ।

अणुलिपण न [अनुलेपन] लेप, पोतना (परह २, ३) ।

अणुलिच्च वि [अनुलिच्च] लिप्त, पोता हुआ (कप्प) ।

अणुलिह सक [अनु + लिह्] १ चाटना । २ छूना । वक्क. अणुलिहत (सम १३१), 'गयणयलमणुलिहत' (पजम ३६, १२) ।

अणुलेवण न [अनुलेपन] १ लेप, पोतना (स्वप्न ६४) । २ फिर से पोतना (परण २) ।

अणुलेविचि वि [अनुलेपित] लिप्त, पोता हुआ, 'कम्माणुलेविचिओ सो' (पजम ८२, ७८) ।

अणुलोम सक [अनुलोमय्] १ क्रम से रखना । २ अनुकूल करना । संक. अणुलोम-इत्ता (ठा ६) ।

अणुलोम न [अनुलोम] १ अनुक्रम, यथाक्रम-वत्थ दुहाणुलोमेण तह य पडिलोमओ भवे वत्थ' (सुर १६, ४८) ।

अणुलोम वि [अनुलोम] सीधा, अनुकूल (ज २) ।

अणुल्लग देखो अणुल्लय (सुख ३६, १३०) ।

अणुल्लण वि [अनुल्लण] अनुद्धत, अनुद्धट (बृह ३) ।

अणुल्लय पु [अनुल्लय] एक द्वीन्द्रिय क्षुद्र जन्तु (उत्त ३६) ।

अणुल्लाप पुं [अनुल्लाप] खराब कथन, दुष्ट उक्ति (ठा ३) ।

अणुव पुं [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १, १६) ।

अणुवइद्ध वि [अनुपदिष्ट] १ अ-कथित, अ-व्याख्यात । २ जो पूर्व-परम्परा से न आया हो, 'अणुवइद्ध नाम ज एओ आयरियपरपरागय' (नीलू ११) ।

अणुवच्च वि [अनुपयुक्त] असावधान (विसे) ।

अणुवएस पु [अनुपदेश] १ अयोग्य उपदेश (पचा १२) । २ उपदेश का अभाव । ३ स्वभाव (ठा २, १) ।

अणुवओग वि [अनुपयोग] १ उपयोग-रहित । २ उपयोग का अभाव, असावधानता (अणु) ।

अणुवंक वि [अनुवक्क] अत्यंत वक्क, बहुत टेढा, 'जाव अगारओ रासि विअ अणुवक परि-गमण गु करेदि' (माल ६२) ।

अणुवदण न [अनुवन्दन] प्रति-नमन, प्रति-प्रणाम (सार्ध ३६) ।

अणुवक्क देखो अणुवंक (पि ७४) ।

अणुवक्ख वि [अनुपाख्य] नाम-रहित, अनि-वंचनीय (बृह १) ।

अणुवक्खड वि [अनुपरकृत] सस्कार-रहित (पाक) (निळू १) ।

अणुवच्च सक [अनु + व्रज्] अनुसरण करना, पीछे-पीछे जाना । अणुवच्चइ (हे ४, १०७) ।

अणुवच्चिअ वि [अनुवच्चिअ] अनुसृत (कुमा) ।

अप्पाअप्पि ली [दे] उत्कण्ठा, श्रोत्सुक्य (विं०) ।

अप्पाउड वि [अप्रावृत्त] अनाच्छादित, नग्न (सू० २, २) ।

अप्पाअच वि [अल्पायुष्क] थोडा आयु-वाला (ठा ३, ३, पञ्च १४, ३०) ।

अप्पाअण वि [अप्रावरण] १ नग्न । २ न वस्त्र का अभाव । ३ वस्त्र नहीं पहनने का नियम (पचा ५, पव ४) ।

अप्पाअणो अप्प = आत्मन् (परह १, २, ज २, प्राप्र, हे ३, ५६) । अक्खि वि [अक्खि] आत्मा की रक्षा करनेवाला (उत्त ६) ।

अप्पाअणु } न [अल्पबहुत्व] न्यूनता, अल्पता, अप्पाअणु } कम-वेशीपन (नव ३२, ठा ४ २) ।

अप्पाअणु वि [अप्रावृत्त] १ वस्त्र-रहित, नग्न (परह २, १) । २ खुला हुआ, बन्द नही (गा १, ५, १) ।

अप्पाअणु वि [अर्पित] दिया हुआ (सुपा ३३५) ।

अप्पाअणु वि [स + दिश] सदेश देना, आदेश देना । अप्पाअणु (षड्, हे ४, २८०) । अप्पाअणु (गा ६३२) । सङ्ग अप्पाअणु, अप्पाअणु वि (पि ५७७, १, १) ।

अप्पाअणु वि [आ + भाप्] सभापण अप्पाअणु (स्राङ्ग ७०) ।

अप्पिअणु विदय [अल्पद्विक] अल्प संपत्ति वाला (भग, पञ्च २, ७४) ।

अप्पिअणु सक [अर्पय] अर्पण करना, भेंट करना, देना, 'अहीरोवि वारणेण अप्पिअणु' (स्राङ्ग) । अप्पिअणु (पि ५५७) । अप्पिअणु (विसे ७ टी) ।

अप्पिअणु न [अर्पण] दान, भेंट (उप १७४) ।

अप्पिअणुअणु वि [आत्मीय] स्वकीय, निजी (भग) ।

अप्पिअणु वि [अर्पित] १ दिया हुआ, भेंट किया हुआ (विपा १, २, हे १, ६३) । २ विवक्षित, प्रतिपादन करने की इष्ट, 'जह दवियमपिय त तहेव अस्थिति पञ्चवनयस्स' (सम्म ४२) । ३ पु पर्यायाधिक नय, 'अप्पिअणुअणु विसेसो सामन्नणुअणुअणुअणु' (विसे) ।

अप्पिअणु वि [अर्पित] १ अनिष्ट, अप्रीतिकर (भग १, ५, विपा १, १) । २ न मन का दुःख । ३ चित्त की राका, 'अदु एणंण व सुहीण वा अप्पिय दट्टु एगता होति' (सूअ १, ४, १, १४) ।

अप्पीअणु ली [अप्रीति] अप्रेम, अरुचि (सुपा २६५) ।

अप्पीअणु वि [आत्मीकृत] आत्मा से सबद्ध (विसे) ।

अप्पुअणु वि [अस्पृष्ट] नहीं हुआ हुआ, अस-युक्त, 'ज अप्पुअणु भावा ओहिनाणुअणुअणु अणुअणु' (सम्म ६१) ।

अप्पाअणु सक [आ + स्फाल्य] १ आस्को-दन करना, हाथ से आघात करना । २ ताडना, पीटना । ३ ताल ठोकना । अप्पाअणु (महा) । क्वक्क अप्पाअणुअणुअणु (राय) । सङ्ग अप्पाअणुअणुअणु (काप्र १८६, महा) ।

अप्पाअणु न [आस्फालन] १ ताल ठोकना । २ ताडना, आघात (गा ५४८, से ५, २२, सुपा ८७) ।

अप्पाअणुअणु वि [आस्फालित] १ हाथ से ताडित, आहत (पि ३११) । २ वृद्धि प्राप्त, उन्नत (राज) ।

अप्पुअणु सक [आ + क्रम] १ आक्रमण करना । २ जाना, 'सभारामो व्व एह अप्पुअणु मलिअरविअर कुमुअणु' (से ६, ५७) ।

अप्पुअणुअणु देखो अप्पुअणुअणु (ज २, वस ६) ।

अप्पुअणुअणु वि [दे आक्रान्त] आक्रान्त, दवाया हुआ (हे ४, २५८) ।

अप्पुअणुअणु वि [अपूर्ण] अपूर्ण, अपूर्ण (गड) ।

अप्पुअणुअणु वि [दे आपूर्ण] पूर्ण, भरा अप्पुअणुअणु हुआ (दे १, २०, सुर १०, १७०, पात्र), 'महया पुत्तसोएण अप्पुअणुअणुअणु' (निर १, १) ।

अप्पुअणुअणुअणु देखो अप्पुअणुअणुअणु (गड) ।

अप्पोअणु ली [दे] वनस्पति-विशेष (परण १) ।

अप्पोअणु सक [आ + स्फोटय] १ आस्फो-

अणुवाल्गना स्त्री [अनुपालना] १ ऊपर देखो (पत्र) । २ कल्प पु [कल्प] साधु-गण के नायक की अकस्मात् मृत्यु हो जाने पर गण को रक्षा के लिए शास्त्रीय विधान (पंचभा) ।
 अणुवालय वि [अनुपालक] १ रक्षक, परिपालक । २ पु गौशालक के एक भक्त का नाम (मग २४, २०) ।
 अणुवास सक [अनु + वास्य्] व्यवस्था करना । अणुवासैजासि (आचा) ।
 अणुवास पु [अनुवास] एक स्थान में अणुक काल तक रह कर फिर वही वास करना (पंचभा) ।
 अणुवासण न [अनुवासन] १ ऊपर देखो । २ यत्र-द्वारा तेल आदि को अपान से पेट में चढ़ाना (शाया १, १३) ।
 अणुवासणा स्त्री [अनुवासना] ऊपर देखो (पंचभा; शाया १, १३) कल्प पु [कल्प] अनुवास के लिए शास्त्रीय व्यवस्था (पंचभा) ।
 अणुवासण वि [अनुपासक] १ सेवा नहीं करनेवाला । २ पु जैनैतर गृहस्थ (निबू ८) ।
 अणुवासर न [अनुवासर] प्रतिदिन, हमेशा (सुर १, २४१) ।
 अणुवित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] १ अनुकूल वर्तन (कुमा) । २ अनुसरण (उप ८३३ टी) ।
 अणुविद्ध वि [अनुविद्ध] सवद, जुडा हुआ (मं ११, १५) ।
 अणुविस सक [अनु + विश्] प्रवेश करना । अणुविसति (सिक्खा ७७) ।
 अणुविहाण न [अनुविधान] १ अनुकरण । २ अनुसरण (विसे २०७) ।
 अणुवीइ स्त्री [अनुवीचि] अनुकूलता, वियाणुनीट मा कासि चोइच्चतो गिलाइ से भुजो (सूत्र १, ४, १, १६) ।
 अणुवीइ } अ [अनुविचिन्य] विचार
 अणुवीइ } कर, पर्यालोचना कर (पि ५६३,
 अणुवीइ } आचा; दस ७) । देखो अणु-
 अणुवीइ } चित्त ।
 अणुवीइ } देगो अणुवीई (सूत्र १, १२,
 अणुवीइ } २, १, १०, १) ।
 अणुवीइ } गक [अनु + वृह्] अनुमोदन
 करना, प्रशंसा करना । अणुवीइइ (कप्य) ।

अणुवृहेत्तु वि [अनुवृहिट्] अनुमोदन करने वाला (ठा ७) ।
 अणुवेद सक [अनु + वेदय्] अनुभव करना । वक्र अणुवेदयत (सूत्र १, ५, १) ।
 अणुवेध } पु [अनुवेध] १ अनुगम, अन्वय,
 अणुवेह } सम्बन्ध (धर्मस ७१२, ७१५) ।
 २ समिधरण (पिंड ५६) ।
 अणुवेयण न [अनुवेदन] फल-भोग, अनुभव (स ४०३) ।
 अणुवेळ अ [अनुवेळ] निरन्तर, सदा (पात्र) ।
 अणुवेळधर पु [अनुवेळधर] नाग-कुमार देवों का एक इन्द्र (सम ३३) ।
 अणुवेह देखो अणुपेह । वक्र अणुवेहमाण (सूत्र १, १०) ।
 अणुव्वइय वि [अनुव्वजित] अनुसृत (स ६८७) ।
 अणुव्वज सक [अनु + व्रज्] १ अनुसरण करना । २ सामने जाना । अणुव्वजे (सूत्र १, ४, १, ३) ।
 अणुव्वय न [अणुव्रत] छोटा व्रत, साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा लघु व्रत, जैन गृहस्थ के पालने के नियम (ठा ५, १) ।
 अणुव्वय न [अनुव्रत] ऊपर देखो (ठा ५, १) ।
 अणुव्वय पु [अणुव्रत] श्रावक-धर्म (पचा १०, ८) ।
 अणुव्वयण = [अनुव्रजन] अनुगमन (धर्मवि ५४) ।
 अणुव्वयय वि [अनुव्रजक] अनुसरण करने-वाला, 'अन्नमन्नमणुव्वया' (शाया १, ३) ।
 अणुव्वया स्त्री [अनुव्रता] पतिव्रता स्त्री (उत्त २०) ।
 अणुव्वस वि [अनुवश] अधीन, आयात्त, 'एवं तुम्हे सरागत्या अन्नमन्नमणुव्वसा' (सूत्र १, ३, ३) ।
 अणुव्वाण वि [अनुव्वान] १ अ-वन्ध, जुला हुआ (उप २११ टी) । २ स्निग्ध, चिकना, 'पव्वाण किचिज्वाणामेव किचिच्च होअणु-व्वाण' (शोध ४८८) ।
 अणुव्विग वि [अनुव्विग] अ-खिन्न, खेद-रहित (शाया १, ८, गा २८५) ।

अणुव्विवाग न [अनुविपाक] विपाक के अनुसार, 'एवं तिरिक्ले मणुयासुरेषु चउरतरंतं तयणव्विवाग (सूत्र १, ५, २) ।
 अणुव्वीइय देखो अणुवीइ (जीव)
 अणुसकम सक [अनुस + क्रम] अनुसरण करना । अणुसकमति (उत्त १३, २५) ।
 अणुसग पु [अनुषङ्ग] १ प्रसंग, प्रस्ताव (प्रासू ३६, भवि) । २ ससंगं, सौहबत, 'मज्झठिई पुण एसा; अणुसङ्गेण हवन्ति गुण-दोसा' (सट्ठि २८, २७) ।
 अणुसगिअ वि [अनुषङ्गिक] प्रासङ्गिक (प्रवि १५) ।
 अणुसंचर सक [अनुस + चर्] १ परिभ्रमण करना । २ पीछे चलना । अणुसचरइ (आचा; सूत्र १, १०) ।
 अणुसंज देखो अणुसज्जा अणुसजति (पव ६८) ।
 अणुसंध सक [अनुस + धा] १ खोजना, ढूढना, तलाश करना । २ विचार करना । ३ पूर्वापर का मिलान करना । अणुसंधेमि (पि ५००) । सक अणुसंधिवि (भवि) ।
 अणुसंधण } न [अनुसंधान] गवेषणा,
 अणुसंधाण } खोज (सबोध ४४) । २ पूर्वा-
 पर की संगति (धर्मस ३०३) ।
 अणुसंधण } न [अनुसंधान] १ खोज,
 अणुसंधाण } शोध । २ विचार, चिन्तन, 'अत्ताणुसंधणपरा सुसावगा एरिसा हुति' (आ २०) । ३ पूर्वापर का मिलान (पचा १२) ।
 अणुसंधिअ न [दे] अविच्छिन्न हिंका, निरन्तर हिचकी (दे १, ५६) ।
 अणुसंभर सक [अनु + स्मृ] याद करना । अणुसभरइ (दसति ४, ५५) ।
 अणुसवेयण न [अनुसवेदन] १ पीछे से जानना । २ अनुभव करना (आचा) ।
 अणुससर सक [अनुस + स्] गमन करना, भ्रमण करना, 'जो इमाओ दिसाओ वा विदिसाओ वा अणुससरइ' (आचा) ।
 अणुससर सक [अनुस + स्मृ] स्मरण करना, याद करना । अणुससरइ (आचा) ।
 अणुसज्ज अक [अनु + सज्] १ अनुसरण करना, पूर्व काल से कालान्तर में अनुवर्तन

देना, सम्मति देना । अवभणुणाणिस्सदि (शौ)
(पि ५३४) ।

अवभणुणा [अभ्यनुज्ञा] अनुमति, सम्मति
(राज) ।

अवभणुणाय वि [अभ्यनुज्ञात] अनुमत,
समत (ठा ५, १) ।

अवभणुणा देखो अवभणुणा ।

अवभणुणाय देखो अवभणुणाय (राया १,
१, कप्प, सुर ३, ८८) ।

अवभणुण न [अभ्यर्ण] १ निकट, नजदीक ।
२ वि ममोपस्थ (पउम ६८, १८) । 'पुर
न [पुर] नगर-विशेष (पउम ६८, ५८) ।

अवभक्त वि [अभ्यक्त] १ तैलादि से मर्दित,
मालिश किया हुआ । २ सिक्त, सीचा हुआ ।
'विसि-विसि चम्भत्तभूरिकेयारो, पत्तो वासा-
रत्तो' (सुर २, ७८) ।

अभ्यत्थ वि [अभ्यत्थ] पठित, शिक्षित
(सुपा ६७) ।

अवभत्थ सक [अभि + अर्थ्य] १ सत्कार
करना । २ प्रार्थना करना । अवभत्थम्ह (पि
४७०) । सक अवभत्थइअ, अवभत्थिअ
(नाट) । क अवभत्थणीय (अभि ७०) ।

अवभत्थण न [अभ्यर्थन] १ सत्कार ।
२ प्रार्थना (कप्प; हे ४, ३८४) ।

अवभत्थणा स्त्री [अभ्यर्ण] १ आदर,
अभिमान । २ प्रार्थना (सि ०, ४८) । २
जानता विज्ञा (पत्ता ११, सुर १, १६)

अवभत्थणिय गयाणपि पिट्ठिमसाइ ।

दद्दहण भासुरमुह, खलसीह
को न वीहेइ' (वजा १२) ।

अवभत्थिय वि [अभ्यर्थित] १ आदृत,
सत्कृत । २ प्रार्थित (सुर १, २१) ।

अवभन्न देखो अवभण (पात्र) ।

अवभवहरिय वि [अभ्यवहृत] भुक्त (सुव
२, १७) ।

अवभवहार पु [अभ्यवहार] भोजन, खाना
(विसे २२१) ।

अवभवालुया स्त्री [दे] अन्नक का चूर्ण
(उत्त ३६, ७५) ।

अवभव देखो अवभव, 'अवभवाण सिद्धा
एतयुणा एतया भव्वा' (पस ८४) ।

अवभव सक [अभि + अस्] सीखना,
अभ्यास करना । वक्क अवभवसत (स ६०६) ।

क अवभवसियव्व (सुर १४, ८५) ।
अवभवण न [अभ्यसन] अभ्यास (दसति
१) ।

अवभवसिय वि [अभ्यस्त] सीखा हुआ (सुर
१, १८०, ६, १६) ।

अवभवहर पु [दे] अन्नक (पच ३, ३९) ।
अवभवहिय वि [अभ्यधिक] विशेष, ज्यादा
(सम २, सुर १, १७०) ।

अवभावच्छ वि [अभ्या + गम्] समुल
आना, सामने आना । अवभावच्छइ (पड्) ।

अवभावस्स देखो अवभवस्सा । अवभावस्सइ,
अवभावस्सेजा (आचा) ।

अवभागम पु [अध्यागम] १ सुखलागमन ।
२ नमी-यात (पत्ता २) ।

अवभागमिय वि [अध्यागत] १ समु-
अवभागन सागत । २ पु आगत्तुक,
पाहुन, अतिथि (सुभ १, २, ३, सुपा ५) ।

अवभायत्त वि [दे] प्रत्यागत, वापस आया
अवभायत्थ हुआ (दे १, ३१) ।

अवभास पु [अभ्यास] गुणकार (अणु ७४,
पिंड ५१५) ।

अवभास न [अभ्यास] १ निकट, नजदीक
(सि ६, ६०, पात्र) । २ वि समीपवर्ती, पार्श्व-
स्थित (पात्र) । ३ पु शिक्षा, पढाई, सीख ।

त पावइ पर-लोए तेण य

अवभास-जोएण' (धर्म २, मवि) ।
अवभाहय वि [अभ्याहृत] आघात-प्रात
(महा) ।

अवभग देखो अवभग = अभि + अज् । प्रयो
अवभगावेइ (पि २३४) ।

अवभग देखो अवभग = अभ्यग (राया १,
१८) ।

अवभगण देखो अवभगण (कप्प) ।

अवभगिय देखो अवभगिय (कप्प) ।

अवभतर देखो अवभतर (कप्प, स ७, पएह
३, ५, राया १, १३) ।

अवभतरओ अ [अभ्यन्तरतस्] १ भीतर
से । २ भीतर मे (आवम) ।

अवभतरिय वि [आभ्यन्तरिक] भीतर
का, अन्तर (सम ६७, कप्प, राया १,
१) ।

अवभतरुद्धि पु [अभ्यन्तरोद्धि] कायो-
त्पय का एक दोप, दातो पेर के अणु को
मिलाकर औ-पुष्टियों को वा-पेनाकर
किया जाना व्यान्-विशेष (वेइय -) ।

अवभट्ट वि [दे] गंत, सामने आकर निज
हुआ, 'हत्थी हत्थीण सम अवभट्टो रत्तरो
सह रहेण' (पउम ६, १८२, ६८, २७) ।

अवभट्ट सक [स + गम्] सगति करना,
मिलना । अवभट्टइ (कुमा, हे ८, १६४) ।
अवभट्टु (सुपा १५०) ।

अवभट्टिअ वि [सगत] सगत, युक्त (पात्र
दे १, ७८) ।

अवभट्टिअ वि [दे] सार, मजदूर (दे १,
७८) ।

अवभण्य वि [अभिन्न] भेदरहित (धर्म ०) ।
अवभण्य देखो अवभण्य (सि १५, ६५) ।

हवणीय (पउम १७, १४, सुपा ५-६)। सक्क
अणुहवेऊण, अणुहविउ (प्रा० पचा २)।
अणुहवण न [अनुभवन] अनुभव (स २-६)।
अणुहविय वि [अनुभूत] जिसका अनुभव
किया गया हो वह (सुपा ९)।
अणुहारि वि [अनुहारिन्] अनुकरण करने
वाला, नकालची (कुमा)।

अणुहाव देखो अणुभाव (स ४०३, ६५६)।
अणुहियासण न [अन्वध्यासन] धैर्य से
महन करना (ज २)।

अणुहु सक [अनु + भू] अनुभव करना।
वह अणुहुत (पउम १०३, १५२)।

अणुहुज सक [अनु + भुञ्ज्] भोग करना,
भोगना। अणुहुजइ (भवि)।

अणुहुत्त देखो अणुहुअ (गा ६५९)।

अणुहुअ वि [अनुभूत] १ जिसका अनुभव
किया गया हो वह (कुमा)। २ न अनुभव
(सि ४, २७)।

अणुहो सक [अनु + भू] अनुभव करना।
अणुहोति (पि ४७५)। वह अणुहोत (पउम
१०६, १७)। कवक्क अणुहोईअंत, अणु-
होइज्जत, अणुहोइज्जमाण, अणुहोईअमाण
(पइ)। क अणुहोदव्व (शौ) (अभि
१३१)।

अणुहप्प देखो अणुकप्प, 'एत्तो वोच्छ अणु-
क्कप्प' (पचमा)।

अणूण वि [अनूत] कम नहीं, अधिक
(कुमा)।

अणूय } पु [अनूप] अधिक जलवाला देश,
अणूय } जल-वहुत स्थान (विसे १७०३,
वव ४)।

अणेअ वि [अनेअ] देखो अणेअ (कुमा अभि
२८६)।

अणेअवि वि [दे] चञ्चल, चपल (दि १,
३०)।

अणेअ } वि [अनेअ] एक से अधिक, बहुत
अणेअ } (श्रीप, प्रासू ५३)। 'करण न
[करण] पर्याय, धर्म, प्रवत्या (मम्म १०६)।
'राइय वि [रात्रिक] अनेक रातों में होने-
याना, अनेक रात सबन्धी (उत्सवादि)
(पम)। 'सो अ [शस्] अनेक बार
(श १४)।

अणेअत पु [अनेकान्त] अनिश्चय, नियम का
अभाव (विसे)। 'वाय पुं [वाद] स्याद्वाद,
जैतो का मुख्य सिद्धान्त, सत्व-असत्व आदि
अनेक विरुद्ध धर्मों का भी एक वस्तु मे सापेक्ष
स्वीकार,

'जेण विणा लोगस्मवि, ववहारो
सव्वहा न निव्वडइ।
तस्स भुवणेक्कयुरणो नमो अणेअतवायस्स'
(सम्म १६६)।

अणेअतिय वि [अनैकान्तिक] ऐकान्तिक
नहीं, अनिश्चित, अनियमित (भग १, १)।
अणेअगावाइ वि [अनेकवादिन्] पदार्थों को
सर्वथा अलग-अलग माननेवाला, अक्रियावाद-
मत का अनुयायी (ठा ८)।

अणेअच्छत वि [अनिच्छत्] नहीं चाहता
हुआ (उप ७६८ टी)।

अणेअज वि [अनेज] निश्चल, निष्कम्प (आक)।
अणेअज्ज वि [अज्ञेय] जानने के अयोग्य,
जानने के अशक्य (महा)।

अणेअलिस वि [अनीदृश] अनुपम, असाधारण,
'जे धम्म सुद्धमक्खाति पडिपुरणमणेअलिस'
(सूअ १, ११)।

अणेअभूय वि [अनेवभूत] विलक्षण,
विचित्र 'अणेअभूयपि वेयण वेदति' (भग
५, ५)।

अणेअस देखो अणेअस। वह अणेअसंत (नाट)।

अणेअसण न [अन्वेपण] खोज, तलाश (महा)।

अणेअसणा छी [अनेषणा] एषणा का अभाव
(उवा)।

अणेअसणज्ज वि [अनेषणीय] अकल्पनीय,
जैन साधुओं के लिए अग्राह्य (भिक्षा-आदि)
(ठा ३, १, राया १, ५)।

अणेअउया छी [अनूतुका] जिसको ऋतु-धर्म
न आता हो वह छी (ठा ५, २)।

अणेअकत वि [अनवक्रान्त] जिसका परामव
न किया गया हो वह, अजित, 'परवाईहि
अणेअकता' (श्रीप)।

अणेअगह देखो अणुगह = अनावग्रह, 'नाग-
रगो सवट्ठो अणेअगहो' (वृह ३)।

अणेअघसिय वि [अनवघर्षित] नहीं घिसा
हुआ, अमाजित (राय)।

अणेअज्ज वि [अनवघ] निर्दोष, शुद्ध (राया
१, ८)।

अणेअज्जगी छी [अनवचाङ्गी] भगवान् महा-
वीर की पुत्री का नाम (आचू)।

अणेअज्जा स्त्री [अनवघा] ऊपर देखो (कप्प)।

अणेअणअ वि [अनवनत] नहीं झुका हुआ
(सि १, १)।

अणेअत्तप्प देखो अणुत्तप्प (पव ६४)।

अणेअम वि [अनवम] हीन-रहित, परिपूर्ण
(आचा)।

अणेअमाण न [अनपमान] अनादर का अभाव,
सत्कार, 'एव उग्गमदोसा विज्जढा
पइरिक्कया अणेअमाण।

मोहतिगिच्छा य कया,

विरियायारो य अणुचिरणो'
(श्रीव २४९)।

अणेअरपार वि [दे] १ प्रचुर, प्रभूत (आवम)।

२ अनादि-अनन्त (पचा १५, जी ४४)। ३
अति विस्तीर्ण (परह १, ३)।

अणेअरुम्मिअ वि [अनुद्धान] अ-शुष्क, गीला
(कुमा)।

अणेअलय न [दे] प्रभात, प्रात काल (दि १,
१६)।

अणेअवणिहिया स्त्री [अनौपनिधिकी] आनु-
पूर्वी का एक भेद, क्रम-विशेष (अणु)।

अणेअवणिहिया छी [अनुपनिहिता] ऊपर
देखो (पि ७७)।

अणेअल्ल वि [अनाद्र] १ शुष्क, सूखा हुआ
(गा ५४१)। 'मण वि [मनस्क] अकरुण,
निष्ठुर, निर्दय (काप्र ८६)।

अणेअवदग्ग वि [अनवदग्ग] अनन्त (सूअ १,
१२, ६)।

अणेअवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, अद्वि-
तीय (पउम ७६, २६, सुर ३, १३०)।

अणेअवमिय वि [अनुपमित] ऊपर देखो
(पउम २, ६३)।

अणेअवसंखा छी [अनुपसंख्या] अज्ञान,
सत्य ज्ञान का अभाव (सूअ २, १२)।

अणेअवहिय वि [अनुपधिक] १ परिग्रह-
रहित, सतोषी। २ सरल, अकपटी (आचा)।

अणेअवाहणग } वि [अनुपानत्क] ज्ञाता-
अणेअवाहणय } रहित, जो ज्ञाता न पहिना हो
(श्रीप, पि ७७)।

अभय (सुपा १८) । 'सेण पुं' [°सेन] एक राजा का नाम (पिंड) ।
 अभयकर वि [अभयकर] अभय देनेवाला, ग्रहिसक (सूत्र १, ७, २८) ।
 अभयकरा स्त्री [अभयकरा] भगवान् अभिनन्दन की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) ।
 अभया स्त्री [अभया] १ हरीतकी, हरें, हरडई (निचू १५) । २ राजा दधिवाहन की स्त्री का नाम (ती ३५) ।
 अभयारिष्ट न [अभयारिष्ट] मय-विशेष (सूत्र १, ८) ।
 अभवसिद्धि पु [अभवसिद्धि] अभव्य, अभवसिद्धीय } मुक्ति के लिये अयोग्य जीव (ठा २, २, एदि, ठा १) ।
 अभविय } वि [अभव्य] १ असुन्दर, अचाह
 अभव्य } (विसे) । २ पु, मुक्ति के लिये अयोग्य जीव (विसे, कम्म ३, २३) ।
 अभाअ वि [अभाग] अत्यान, अयोग्य त्यान (से ८, ४२) ।
 अभाइ वि [अभागिन्] अभागा, हत-भाग्य, कमनसीव (चार २६) ।
 अभागवेज्ज वि [अभागवेज्ज] ऊपर देखो (पञ्च २८, ८६) ।
 अभाव पु [अभाव] १ च्वस, नाश (बृह १) । २ अविद्यमानता, असत्त्व (पञ्च ३) । ३ असम्भव (दस १) । ४ अशुभ परिस्थान (उत्त १) ।
 अभाविय वि [अभावित] अयोग्य, अनुचित (ठा १०, बृह ३) ।
 अभावुग वि [अभावुक] जिसपर दूसरे के सग की अमर न पड़ सके वह, 'विसहरमणी के अभावुगदन्व जीवो उ भावुग तन्हा' (सुपा १७५, श्रोघ ७७३) ।
 अभासग } वि [अभासक] १ बोलने की
 अभासय } शक्ति जिसकी उच्चन न हुई हो वह । २ नहीं बोलनेवाला । ३ पु, केवल स्व-इन्द्रियवाला, एकैन्द्रिय जीव । ४ मुक्त आत्मा (ठा २, ४, भाग, अणु) ।
 अभासा स्त्री [अभासा] १ असत्य वचन । २ सत्य-मिश्रित असत्य वचन (भाग २५, ३) ।
 अभि म [अभि] निम्न-लिखित अर्थों में से किसी एक को बतलानेवाला अभ्यप-१ संसुद्ध,

सामने, 'अभिगच्छण्या' (श्रौष) । २ चारो ओर, समन्तात्, 'अभिदो' (स्वप्न ४२) । ३ बलात्कार, 'अभिप्रोग' (धर्म २) । ४ उल्लंघन, अतिक्रमण, 'अभिदत्त' (आचा) । ५ अत्यन्त, ज्यादा, 'अभिदुग' (सूत्र १, ५, २) । ६ लक्ष्य, 'अभिमुह' । ७ प्रतिकूल, 'अभियाय' (आचा) । ८ विकल्प । ९ सभावना (निचू १) । १० निरर्थक भी इस अभ्यय का प्रयोग होता है, 'अभिमतिथ' (सुर १६, ६२) ।
 अभिअण पु [अभिअण] १ कुल । २ जन्म-भूमि (नाट) ।
 अभिआवण वि [अभ्यापत्र] समुल-आगत (सूत्र १, ४, २) ।
 अभिइ स्त्री [अभिजित्] नक्षत्र-विशेष (ठा २, ३) ।
 अभिइ सक (अभि + इ) सामने जाना, समुल जाना । वहु अभिइत (उप १४२ टी) ।
 अभिउज्ज देखो अभिजुज । सङ्घ, अभिउज्जिय (ठा ३, ४, दस १०) ।
 अभिओअ } पु [अभियोग] १ आज्ञा,
 अभिओग } हुकुम (श्रौष, ठा १०) । २ बलात्कार, 'अभिप्रोगे अ निप्रोगे' (आ ५) । ३ अत्यान से कोई भी कार्य में लगाना (धर्म २) । ४ अभिमत, परामव (भाव ५) । ५ कामण-प्रयोग, वशीकरण, वश करने का पूर्ण या मन्त्र-तन्त्रादि, 'दुविहो खलु अभिप्रोगो, दन्वे भावे य होइ नायन्वो । दव्वम्मि होइ जोगो, विजा मंता य भावम्मि' (श्रोघ ५६७) ।
 ६ गर्व, अभिमान (भाव ५) । ७ आग्रह, हठ (नाट) । 'पणत्ति स्त्री' [°प्रज्ञप्ति] विद्या-विशेष (शाया १, १६) । देखो अहिओय ।
 अभिओग पु [अभिओग] उद्यम, उद्योग (सिदि ५८) ।
 अभिओगी स्त्री [आभियोगी] भावना-विशेष, ध्यान-विशेष, जो अभियोगिक देव-गति (नीकर-स्थानीय देव-जाति) में उल्लस होने का हेतु है (बृह १) ।
 अभिओयण न [अभियो] १ देखो अभिओग (भाव, पण २०) ।

अभिगण } देखो अब्भंगण (नाट, रसा) ।
 अभिजण }
 अभिकख सक [अभि + काइक्ष्] इच्छा करना, चाहना । अभिकखेजा (आचा) । वहु अभिकंखमाण (दस ६, ३) ।
 अभिकखा स्त्री [अभिकाइत्ता] अभिनाया, इच्छा (आचा) ।
 अभिकंखि } वि [अभिकाइक्ष्ण] अभि-
 अभिकखिर } तापो, इच्छुक (पि ४०५, सुपा १२६) ।
 अभिकत वि [अभिक्रान्त] १ गत, प्रति-क्रान्त, 'अणभिकत व खलु वय सपेहाए' (आचा) । २ समुल गत । ३ आरखव । ४ उल्लघित (आचा, सूत्र २, २) ।
 अभिक्रम सक [अभि + क्रम्] १ जान, गुजरना । २ सामने जाना । ३ उल्लघन करना । ४ शुरू करना । वहु अभिक्रमाण (आचा) । सङ्घ अभिक्रम्म (सूत्र १, १, २) ।
 अभिक्रम पु [अभिक्रम] १ उल्लघन । २ प्रारम्भ । ३ समुल-गमन । ४ गमन, गति (आचा) ।
 अभिक्ख } म [°अभिक्षण] बारवार (उप
 अभिक्खण } १४७ टी, ठा २, ४, वव ३) ।
 अभिक्खा स्त्री [अभिक्ख्या] नाम (विसे १०४८) ।
 अभिगच्छ सक [अभि + गम्] प्राप्ति करना । अभिगच्छइ (दम ४, २१, २२, ६, २, २) ।
 अभिगच्छ सक [अभि + गम्] सामने जाना । अभिगच्छति (मग २, ६) ।
 अभिगच्छणया स्त्री [अभिगमन] ममुन-गमन (श्रोघ) ।
 अभिगच्छणा देखो अभिगच्छणया (वव १) ।
 अभिगज्ज मव [अभि + गर्ज्] गर्जना, बृव जोर से भावना करना । बट अभिगज्जत (शाया १, १८, सुर १३, १२२) ।
 अभिगम देखो अभिगच्छ । ४ अभिगम लोय (स ६७६) ।
 अभिगम पु [अभिगम] १ प्राप्ति स्वीकार (गति) । २ जान, गमन (व २, ४) । ३ (हुक ना) नन्दन, शीघ्र (शाया १, १) ।

अण्णी ली [दे] १ देवर की ली। २ पति की वहिन, ननद। ३ फूफा, पिता की वहिन (दे १, ५२)।

अण्णु } वि [अज्ञ] अज्ञान, निर्बोध, मूर्ख
अण्णुअ } (पङ्, गा १८४)।

अण्णुण वि [अन्योन्य] परस्पर, आपस में (गउड)।

अण्णूण वि [अन्यून] परिपूर्णा (उप पृ २२४)।

अण्णे सक [अनु + इ] अनुसरण करना। अण्णोइ (विसे २५२६)। अण्णोति (पि ४६३)। वक्क अण्णज्जमाण, (अन्वीयमान) (विपा १, १)।

अण्णेस सक [अनु + इप्] १ खोजना, दूढ़ना तहकीकात करना। २ चाहना, वाछना। ३ प्रार्थना करना। अण्णोसइ (पि १६३)। वक्क अण्णेसत्त, अण्णेसअत्त, अण्णेसमाण (महा, काल)।

अण्णेसण न [अन्वेपण] खोज, तलाश, तहकीकात (उप ६ टी)।

अण्णेसणा ली [अन्वेपणा] १ खोज, तहकीकात (प्राप)। २ प्रार्थना (आचा)। ३ गृहस्थ ने दी जाती भिक्षा का ग्रहण (ठा, ३, ४)।

अण्णेसय वि [अन्वेपक्क] गवेषक (पव ७१)।

अण्णेसि वि [अन्वेपिन्] खोज करनेवाला (आचा)।

अण्णेसिय वि [अन्वेपित] जिसकी तहकीकान भी गई हो वह, 'अण्णोसिया सव्वमो तुभे न व्हिचि दिट्ठा' (महा)।

अण्णोण देवो अण्णुण, 'अण्णोणसमणु-वद्धं सिच्छयमो भण्णियविसय तु' (पचा ६, म्पन ५२)।

अण्णोसरिअ वि [दे] अतिक्रान्त, उल्लिखित (दे १, ३६)।

अण्ह म्म [मुज्] १ खाना, भोजन करना। २ पानन करना। ३ ग्रहण करना। अण्हइ (प ४, ११०, पङ्)। अण्हइ (श्रौप)। पण्ह (कुमा)।

*अण्ह न [अहन्] दिवस, दिन, 'पूवावररह-मानममसि' (उग)।

अण्हग } पु [आश्रय] कर्म-बन्ध के कारण
अण्हय } हिसादि (परह १, १, ५, श्रौप)।

*अण्हो ली [तृष्णा] तृषा, प्यास (गा ६३)।
अण्होअअ वि [दे] भ्रान्त, भूला हुआ (दे १, २१)।

अतक्किय वि [अतर्कित] १ अचिन्तित, आकस्मिक, 'अतक्कियमेव एरिस वसणमह पत्ता' (महा)। २ ठीक-ठीक नहीं देखा हुआ, अपरिलक्षित (वव ८)। ३ क्रिवि 'अतक्किय वेव विहरिओ रायहत्थी' (महा)।

अतड वि [अतट] छोटा किनारा, 'अतडुव वातो सो चेव मग्गो' (वृह १)।

अतण्होअ वि [अतृष्णाक] तृष्णा रहित, नि स्पृह (अचु ६४)।

अतत्त न [अतत्त्व] असत्य, झूठ, गैरव्याजवी (उप ५०८)।

अतत्थ वि [अत्रस्त] नहीं डरा हुआ, निर्भीक (कुमा)।

अतत्थ वि [अतथ्य] असत्य, झूठा (आचा)।

अतर देखो अयर (पव १, कम्म ५, भवि)।

अतव पुन [अतपस्] १ तपश्चर्या का अभाव (उत्त २३)। २ वि तप-रहित (वृह ४)।

अतव पु [अस्तव] अ-प्रशसा, निन्दा (कुमा)।

अतसी देखो अयसी (परह १)।

अतह वि [अतथ] असत्य, अ-वास्तविक, झूठा (सूत्र १, १, २, आचा)।

अतह वि [अतथा] उस मार्फिक नहीं, 'जामो चिय कायव्वे उच्छाहेति गय्याए कित्तीओ।

ताओ चिय अतह-एण्वेयणेण अलसंति हिययाइ' (गउड)।

अतार वि [अतार] तरने को अशक्य (राया १, ६, १४)।

अतारिम वि [अतारिम] ऊपर देखो (सूत्र १, ३, २)।

अतिउट्ट अक [अति + उट्ट] १ खूब दूढ़ना, दूढ़ जाना। २ सब बन्धन से मुक्त होना।

अतिउट्टइ (सूत्र १, १५, ५)।

अतिउट्ट सक [अति + वृत्] १ उल्लघन करना। २ व्याप्त होना। *तिउट्टइ (सूत्र १, १५, ६ टी)।

अतिउट्ट वि [अतिवृत्त] १ अतिक्रान्त। २

अनुगत, व्याप्त, 'जसी गुहाए जलणेतिउट्टे अविजाणमो डक्कइ लुत्तपरणो' (सूत्र १, ५, १, १२)।

अतित्थ न [अतीर्थ] १ तीर्थ (चतुर्विध सब) का अभाव, तीर्थ की अनुत्पत्ति। २ वह काल, जिसमें तीर्थ की प्रवृत्ति न हुई हो या उसका अभाव रहा हो (परह १)। *सिद्ध वि [सिद्ध] अतीर्थ काल में जो मुक्त हुआ हो वह, 'अतित्थसिद्धा य मरुदेवी' (नव ५६)।

अतिहि देखो अइहि।

अतीगाढ वि [अतिगाढ] १ अति-निविड। २ क्रिवि अत्यत, बहुत, 'अतीगाढ भोओ जक्खाहिओ' (पजम ८, ११३)।

अतुल वि [अतुल] अनुपम, असाधारण (परह १, १)।

अतुल्लिय वि [अतुल्लित] आसाधारण, अद्वितीय (भवि)।

अत्त देखो अप्प = आत्मन् (सुर ३, १७४, सम ५७, एदि)। *लाभ पु [लाभ] स्वल्प की प्राप्ति, उत्पत्ति (कम्म २, २५)।

अत्त वि [आर्त्त] पीडित, दुःखित, हैरान (सुर ३, १४३, कुमा)।

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुआ (राया १, १)। २ स्वीकृत, मजूर किया हुआ (ठा २, ३)। ३ पु ज्ञानी मुनि (वृह १)।

अत्त वि [आप्त] १ ज्ञानादि-गुण-संपन्न, गुणी। २ राग-द्वेष वर्जित, वीतराग। ३ प्रायश्चित्त-दाता गुह,

'नाएमादीणि अत्ताणि, जेए अत्तो उ सो भवे। रागद्वोसपहीणो वा, जे व इट्ठा विसोहिण' (वव १०)। ४ मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, १०)।

५ एकान्त हितकर (भग १४, ६)। ६ प्राप्त, मिला हुआ (वव १०), 'अत्तप्पसरएणत्तेस्से' (उत्त १२)।

अत्त वि [आत्र] दुःख का नाश करनेवाला, सुख का उत्पादक (भग १४, ६)।

अत्त अ [अत्र] यहा, इस स्थान में (नाट)। *भव वि [भवत्] पूज्य, माननीय (अभि ६१, पि २६३)।

अत्तअ देखो अक्खय = अत्यय (प्राक् २१)।

अत्तकम्म वि [आत्मकर्मन्] १ जिससे कर्म-

ह्व गया, ग्रहश्य हुआ (ग्रोध ५०७, महा-
सुपा १५५) । २ हीन, हानि-प्राप्त (ठा ४, ३) ।
अत्यारिआ स्त्री [दे] सखी, वयस्या (दे १
१६) ।

अत्थर सक [आ + स्तृ] विद्याना, शय्या
करना, पसारना । अत्थरइ (उव) । सक
अत्थरिऊग (महा) ।

अत्थरण न [आस्तरण] १ विद्यौना, शय्या
(मे १४, ५०) । २ विद्याना, शय्या करना
(विसे २३२२) ।

अत्थरय वि [आस्तरक] १ आच्छादन करने-
वाला (राय) । २ पु विद्योने के ऊपर का
वस्त्र (भग ११, ११, कप्प) ।

अत्थरय वि [अस्तरजस्क] निर्मल, शुद्ध (भग
११, ११) ।

अत्यवण देखो अत्यमण (भवि) ।

अत्यसिद्ध पु [अर्थसिद्ध] पक्ष का दशवाँ
दिवस, दशमी तिथि (सुज १०, ६४) ।

अत्या देखो अट्टा = आस्था ।

अत्या } सक [अस्ताय] अस्त होना,
अत्याअ } ह्व जाना, ग्रहश्य होना । अत्याइ,
अत्याए (पञ्च ७३, ३५) । अत्याअति (से
७, २३) । वक्तु अत्याअत (से ७, ६६) ।

अत्याअ वि [अस्तमित] अस्त हुआ, ह्व
हुआ, 'तावथिय दिवसपरो अत्याओ विगयकि-
रणसघाओ' (पञ्च १०, ६६, से ६, ५२) ।

अत्याइया स्त्री [दे] गोष्ठी मण्डप (स ३६) ।

अत्याण न [आस्थान] सभा, सभा-स्थान
(सुर १, ५०) ।

अत्याणिय वि [अस्थानिन्] गैर-स्थान मे
लगा हुआ, 'अत्याणियनयणहि' (भवि) ।

अत्याणी स्त्री [आस्थानी] सभा-स्थान (कुमा) ।

अत्याणीअ वि [आस्थानीय] सभा-सबन्धी
(सुप्र ७८) ।

अत्याम वि [अस्थामन्] बल-रहित, निर्बल
(रापा १, १) ।

अत्यार पु [दे] सहायता, साहाय्य (दे १, ६,
राप) ।

अत्यारिय पु [दे] नीकर, कर्मचारी (वव ६) ।

अत्यारगह देसो अत्युगह (पएण ५) ।

अत्यारति स्त्री [अर्थार्पति] अनुक्त अर्थ को
पटवम ने ममन्ना, एक प्रकार का अनुमान-

ज्ञान, जैसे 'दिवतत्त पुट्ट है और दिन मे नही
खाता है' इस वाक्य से 'दिवदत्त रात मे खाता
है' ऐसा अनुक्त अर्थ का ज्ञान (उप ६६८) ।

अत्याह वि [अस्ताघ] १ अथाह, थाह-रहित,
गभीर (राया १, १४) । २ नासिका के ऊपर
का भाग भी जिसमे ह्व सके इतना गहरा
जलाशय (बृह ४) । ३ पु अतीत चौबीसी
मे भारत मे समुत्पन्न इस नाम के एक तीर्थकर-
देव (पव ६) ।

अत्याह वि [दे] देखो अत्यघ (दे १, ५४,
भवि) ।

अत्थि वि [अत्थिन्] १ याचक, मांगनेवाला
(सुर १०, १००) । २ धनी, धनवाला (पचा) ।
३ मालिक, स्वामी (विसे) । ४ गरजू, चाहने-
वाला,

'धराओ धरात्थियाण, कामत्थीण च
सव्वकामकरो ।
सग्गापवग्गसगमहेऊ जिणवेसिओ धम्मो ॥'
(महा) ।

अत्थि न [अत्थि] हाड, हड्डी (महा) ।

अत्थि अ [अस्ति] १ सत्त्व-सूचक अव्यय है,
'अत्येगइया मुडा भवित्ता अगाराओ अराणारिय
पव्वइया' (औप), 'अत्थि एं मते । विमाणाइ'
(जीव ३) । २ प्रदेश, अवयव, 'चत्तारि अत्थि-
काया' (ठा ४, ४) । ३ अवत्तव्य वि [अव-
त्तव्य] सप्तभङ्गी का पाचवाँ भङ्ग, स्वकीय
द्रव्य आदि की अपेक्षा से विद्यमान और एक
ही साथ कहने को अशक्य पदार्थ,
'सम्भावे आइडो देसो देसो अ उभयहा जस्स ।
त अत्थिअवत्तव्व च होइ दविअ विअप्पवसा'
(सम्म ३८) ।

०काय पु [०काय] प्रदेशो का—अवयवो का
समूह (सम १०) । ०णत्थवत्तव्व वि
[०नास्त्यवत्तव्य] सप्तभङ्गी का सातवाँ
भङ्ग, स्वकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से विद्यमान,
परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से अविद्यमान और
एक ही समय मे दोनो धर्मो से कहने को
अशक्य पदार्थ,
'सम्भावासम्भावे, देसो देसो अ उभयहा जस्स ।
त अत्थिणत्थवत्तव्व च दविअ विअप्पवसा'
(सम्म ४०) ।

०त्त न [०त्व] सत्व, विद्यमानता, हयाती

(सुर २, १४२) । ०त्ता स्त्री [०त्ता] सत्व,
हयाती (उप पु ३७४) । ०त्तिनय पु [०इति-
नय] द्रव्यार्थिक नय (विसे ५३७) । ०न्त्थि
वि [०नास्ति] सप्तभङ्गी का तीसरा भङ्ग—
प्रकार, स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से विद्यमान
और परकीय द्रव्यादि की अपेक्षा से अविद्य-
मान वस्तु,

'अह देसो सम्भावे देसोसम्भावपज्जे निअओ ।
त दविअमत्थिनत्थि अ, आएसविसेसिअ जम्हा'
(सम्म ३७) ।

०न्त्थिपपवाय न [०नास्तिप्रवाद्] बारहवे
जैन भङ्ग-अन्त्य का एक भाग, चौथा पूर्व (सम
२६) ।

अत्थिक्क न [आस्तिक्य] आस्तिकता, आत्मा-
परलोक आदि पर विश्वास (आ ६, पुष्प
११०) ।

अत्थिय देखो अत्थि = अत्थिन् (महा, औप) ।
अत्थिय वि [अर्थिक] धनी, धनवान् (हे २,
१५६) ।

अत्थिय न [अस्थिक] १ हड्डी, हाड । २ पु
वृक्ष-विशेष । ३ न बहु बीजवाला फल-विशेष
(पएण १) ।

अत्थिय वि [आस्तिक] आत्मा, परलोक
आदि की हयाती पर श्रद्धा रखनेवाला
(धर्म २) ।

अत्थिर देखो अत्थिर (पचा १२) ।

अत्थीकर सक [अर्थी + कृ] प्रार्थना करना,
याचना करना । अत्थीकरइ (निच्च ४) । वक्तु
अत्थीकरत (निच्च ४) ।

अत्थीकरण न [अर्थीकरण] प्रार्थना, याचना
(निच्च ४) ।

अत्यु मक [आ+स्तृ] विद्याना, शय्या करना ।
कर्म अत्युव्वइ, कनक अत्युव्वंत (विसे
२३२१) ।

अत्युअ वि [आस्तृत्] विद्याया हुआ (पाअ-
विसे २३२१) ।

अत्युगह पु [अर्थावग्रह] इन्द्रियाँ और मन
द्वारा होनेवाला ज्ञान-विशेष, निविकल्पक ज्ञान
(सम ११, भा २, १) ।

अत्युगहण न [अर्थावग्रहण] फल का निश्चय
(भग ११, ११) ।

अत्युड वि [दे] लघु, छोटा, (दे १, ६) ।

अभिलासुग वि [अभिलापुक] अभिलाषी
(उप ३५७ टी) ।
अभिलोयण न [अभिलोकन] जहाँ खडे रह
कर दूर की चीज देवी जाय वह स्थान
(परह २, ४) ।
अभिलोयण न [अभिलोचन] ऊपर देखो
(परह २, ४) ।
अभिवद सक [अभि + वन्द] नमस्कार
करना, प्रणाम करना । वक्तु अभिवदत
(पठम २३, ६), कृ 'जे साहुरो ते अभि-
वदियव्वा' (गोय १४), अभिवदणिज्ज
(विसे २६४३) ।
अभिवदणा ली [अभिवन्दना] प्रणाम, नम-
स्कार (चिद्वय ६३६) ।
अभिवदय वि [अभिवन्दक] प्रणाम करने
वाला (श्रीप) ।
अभिवड्ह अक [अभि + वृध्] बढना,
बडा होना, उन्नत होना । अभिवड्हामो, भुका,
श्रमिन्ड्हत्या (कप्य) । वक्तु अभिवड्हेमाण
(ज ७) ।
अभिवड्हि देखो अभिवुड्हि (इक) ।
अभिवड्हि देखो अहिंवड्हि (सुज १०
१२ टी) ।
अभिवड्हिय वि [अभिवधिन] १ बढाया
हुआ । २ अधिक मास । ३ अधिक मासवाला
वर्ष (सम ५६, चन्द ११) ।
अभिवड्हे सक [अभि + वधेय्] बढाना ।
श्रमिड्हैति (सुज ६) । वक्तु अभिवड्हेमाण
(सुज ६) । सक्र अभिवड्हेत्ता (सुज ६) ।
अभिवत्त वि [अभिव्यक्त] आविभूत
(धर्मस ५५) ।
अभिवत्ति ली [अभिव्यक्ति] प्रादुर्भाव
(उप २५५) ।
अभिवय सक [अभि + व्रज्] सामने
जाना । वक्तु अभिवय (एग्या १, ८) ।
अभिवाइय वि [अभिवादि] प्रणत, नम-
स्कृत (सुपा ३१०) ।
अभिवात पु [अभिवात] १ सामने का
पवन । २ प्रतिकूल (गरम या रुख) पवन
(श्राचा) ।
अभिवात सक [अभि + वाद्य्] श्राम,
अभिवाय करना, नमस्कार करना । अभि-

वाएइ (महा) । अभिवाद्ये (विसे १०५४) ।
वक्तु अभिवायमाण (श्राचा) । कृ अभि-
वायणिज्ज (सुपा ५६८) ।
अभिवाय देखो अभिवात (श्राचा) ।
अभिवायण न [अभिवादन] प्रणाम, नम-
स्कार (श्राचा, दसत्त) ।
अभिवाहरण न [अभिव्याहरण] बुलाहट,
पुकार (पचा २) ।
अभिवाहार पु [अभिव्याहार] प्रश्नोत्तर,
सवाल-जवाब (विसे ३३६६) ।
अभिविहि पुत्री [अभिविधि] मर्यादा, व्याप्ति
(पचा १५, विसे ८७४) ।
अभिवुड्हि ली [अभिवृष्टि] वृष्टि, वर्षा (पच
४०) ।
अभिवुड्ह देखो अभिवड्ह । सक्र अभि-
वुड्हित्ता (सुज १) ।
अभिवुड्हि ली [अभिवृद्धि] १ वृद्धि,
बढाव । २ उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का श्रविष्ठाता
देव (ज ७) ।
अभिवुड्हे देखो अभिवड्हे । सक्र अभि-
वुड्हेत्ता (सुज ६) ।
अभिवेदणा ली [अभिवेदना] अत्यन्त पीडा
(सूत्र १, ५, १, १६) ।
अभिव्वजण न [अभिव्यञ्जन] देखो अभि-
वत्ति (सूत्र १, १, १) ।
अभिव्वहार देवो अभिवाहार (विसे
३१२) ।
अभिसकण न [अभिगङ्कन] शका, वहम
(संबोध ४६) ।
अभिसका ली [अभिगङ्का] सशय, सदेह
(सूत्र १, ६, १, १४) ।
अभिसकि वि [अभिगङ्किन्] १ सदेह करने
वाला । २ भीष, डरनेवाला, 'उज्जु मारा-
भिसकी मरणा पमुच्चति' (श्राचा, एग्या
१, १८) ।
अभिसग पु [अभिप्वङ्ग] श्रामक्ति (ठा
३, ४) ।
अभिसजाय वि [अभिमजात] उन्नत
(श्राचा) ।
अभिसयुण सक [अभिस + स्तु] स्तुति
करना, वर्णन करना । वक्तु अभिसंयुणमाण
(एग्या १, ८) ।

अभिसंधारण न [अभिसंधारण] पर्या-
लोचन, विचारना (श्राच) ।
अभिसधि पुत्री [अभिसधि] श्राय, श्रमि-
प्राय (उप २११ टी) ।
अभिसधिय वि [अभिसधि] गृहीत, उपात्त
(श्राचा) ।
अभिसभ भूत उत्पन्न, प्रादु-
भूत (श्रा, १) ।
अभिसवुद्ध वि [अभिसवुद्ध] ज्ञान-प्राप्त,
बोध-प्राप्त (श्राच
अभिसवुद्ध वि [अभिसवुद्ध] बडा हुआ,
उन्नत श्रवत्या क
श्राचा) ।
अभिसमण्णा अभिसमन्नागं
हुआ, सुनिर्णो
(सूत्र २, १) ।
एग्या १, ८,
अभिसमागम [अभिसमा + गम] १
सामने जाना । २ करना । ३ निर्णय
करना, ठीक-ठीक जान सक्तु अभिसमा
गम्म (श्राचा, दस ५
अभिसमागम पुं [अभिसमागम] १ समुप
गमन । २ प्राप्ति । णं (ठा ३, ४) ।
अभिसमे सक [अभिसमागम = श्रमिण] १ देवो अभि-
समागम = श्रमिण ३, ४) । सक्र अ २ । अभिसमेइ (ठा
व (श्राचा) ।
अभिसर मक [अभिसर] श्रिय के पास
जाना । वक्तु अभि [अभिसर] श्रिय के पास
मोह ६१) ।
अभिसरण न [अभिसरण] १ श्रमणा,
मग्न (कुमा) । २ अभिसरण
जाना (कुमा) ।
अभिसवे पु [अभिसवे] १ स्वर्णी, मन
श्रकं । २ मय मान १
(पच ६) । १ अभिप्याय पु न
अभिसारिआ देव [अभिसारिआ] १ परिणाम (श्राचा
८७१) । १ अभिप्येय वि [अभिसारिआ] २
२३) ।
अभिसिच मक [अभिसिच] १ अभिभय सक्र
करना । श्रमिण १
सिच्चमाण (पच १, २) ।
वित्तए (पि ५) १ अभिभय पुं [अभिसिच] १
अभिसिच वि, १ अभिभय पुं [अभिसिच] १
येक दिया गर १ अभिभय पुं [अभिसिच] १
(सुपा ५७६)

अहा लो [आद्र] १ नक्षत्र-विशेष (सम २) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।

अहाअ पु [दे] १ आदर्श, दर्पण (दे १, १४, परण १५, निद्र १३) । २ पसिण पु [प्रभ] विद्या-विशेष, जिससे दर्पण मे देवता का आगमन होता है (ठा १०) । ३ विज्ञा ली [विद्या] विक्रिस्ता का एक प्रकार, जिससे बीमार को दर्पण मे प्रतिबिम्बित कराने से वह नीरोग होता है (वव ५) ।

अहाइअ वि [दे] आदर्श वाला, आदर्श से पवित्र (वृह १) ।

अहाग [दे] देखो अहाअ (सम १२३) ।

अहि पु [अद्रि] पहाड, पर्वत (गडड) ।

अहिद्रु वि [अद्य] १ नही देखा हुआ (सुर १, १७२) । २ दर्शन का अविषय (सम्म ६६) ।

अहिय वि [आद्रित] आद्र किया हुआ गिगाया हुआ (विक्र २३) ।

अहिय वि [अद्रित] पीटा हुआ, पीडित (वव १०) ।

अहिस्स वि [अद्य] देखने के अयोग्य या अशक्य (सुर १, १२०, सुपा ८५, आ २७) ।

अहिस्सत } वक्क [अद्यशयमान] नही
अहिस्समाण } विज्ञाता हुआ (सुपा १५४, ४५७) ।

अहीण वि [अद्रीण] क्षोभ को अप्राप्त, अनुत्पन्न, निर्भीक (परह २, १) ।

अहीण देवो अदीण (शोध ५३७) ।

अद्दुमाअ वि [दे] पूर्ण, भरा हुआ (पड्) ।

अट्टेसि नि [अद्य] देखने के अशक्य (स १७०) ।

अट्टोसोअरिणी ली [अद्ययीकारिणी] अद्यय बनानेवाली विद्या (सुपा ४५४) ।

अट्टोसोअरण नि [अद्ययीकरण] १ अद्यय करना । २ अद्यय करनेवाली विद्या, 'किपुण नित्रामिअग्गो अट्टोसोअरणसग्गो वावि' (सुपा ४५५) ।

अट्टोहि नि [अट्टोहिन्] द्रोह-रहित, दोष-रहित (सम ३) ।

अट्ट पु [अर्थ] १ श्राया (कुमा) । २ क्षण, घट (नि ४०२) । ३ अरिस्स पु [कर्ध] परि-गणन-रत, सन का आठवां भाग (अणु) ।

कुडव, कुलव पुं [कुडव, कुलव] एक प्रकार का धान्य का परिमाण (राय) ।

कुलेत्त न [कुत्र] एक अहोरात्र मे चन्द्र के साथ योग प्राप्त करनेवाला नक्षत्र (चद १०) ।

कुल्ला ली [खल्वा] एक प्रकार का बूटा (वृह ३) ।

कुडय पु [घटक] श्राया परिमाणवाला पडा, छोटा पडा (जवा) ।

कुच पु [चन्द्र] १ श्राया चन्द्र (गा ५७१) । २ गल-हस्त, गला पकड कर बाहर करना (जप ७२८ टी) । ३ न. एक हथियार (जप पृ ३६५) । ४ अर्थ चन्द्र के आकारवाले सोपान (राया १, १) । ५ एक तरह का बाण, 'एसो तुह तिक्खेण सीस खिदामि अद्ध-चदेण' (सुर ८, ३७) ।

कुक्कवाल न [चक्रवाल] गति-विशेष (ठा ७) ।

कुक्कि पु [चक्रिन्] चक्रवर्ती राजा से अर्थ विभूति वाला राजा, वासुदेव (कम्म १, १२) ।

कुल्लट्ट, कुल्लट्ट वि [षट्] साढे पांच (पि ४५०, सम १००) ।

कुट्टम वि [ष्टम] साढे सात (ठा ९) ।

कुणाराय न [नाराच] चौथा सहजन्, शरीर के हाडो की रचना-विशेष (जीव १) ।

कुणारीसर पु [नारीश्वर] शिव, महादेव (कप्पु) ।

कुत्थिय वि [तृतीय] हाई (पचम ४८, ३५) ।

कुत्तरस वि [त्रयो-दश] साढे बारह (भग) ।

कुत्तिय वि [त्रिप-ञ्चाश] साढे बावन (सम १३४) ।

कुत्थि वि [अर्थ] चौथा भाग, पौआ (वृह ३) ।

कुत्थम वि [नचम] साढे आठ (पि ४५०) ।

कुत्थो देवो कुणाराय (कम्म १, ३८) ।

कुत्थम वि [पञ्चम] साढे चार (सम १०२) ।

कुत्थिअक वि [पर्येद्ध] आसन-विशेष (ठा ५, १) ।

कुत्थर पु [प्रहर] ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग (परण १८) ।

कुत्थवर पु [बवेर] देश-विशेष (पचम २७, ५) ।

कुत्थो देवो कुणाराय (कम्म १, ३८) ।

टी) । २ राज्य वि [राज्यिक] राज्य का आधा हिस्सेदार, अर्थ राज्य का मालिक (विपा १, ६) ।

३ रत्त पु [रात्र] मध्य रात्रि का समय, निशीथ (गा २३१) ।

४ वेयाली स्त्री [वेताली] विद्या-विशेष (सूअ २, २) ।

५ सक्कासिया स्त्री [साकारियका] एक राज-कन्या का नाम (आव ४) ।

६ सम न [सम] एक वृत्त, छन्द-विशेष (ठा ७) ।

७ हार पु [हार] १ नवसरा हार (राय, श्रौप) । २ इस नाम का एक द्वीप । ३ समुद्र-विशेष (जीव ३) ।

४ हारभद्द [हारभद्र] अर्धहार-द्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।

५ हारमहाभद्द पु [हारमहाभद्र] पूर्वोक्त ही अर्थ (जीव ३) ।

६ हारमहावर पु [हार-महावर] अर्धहार समुद्र का एक अधिष्ठायाक देव (जीव ३) ।

७ हारवर पु [हारवर] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष । ३ उनका अधिष्ठायाक देव (जीव ३) ।

८ हारवरभद्द पुं [हारवरभद्र] अर्धहारवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।

९ हारवरमहावर पुं [हारवरमहावर] अर्धहारवर समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।

१० हारोभास पुं [हारोभास] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष (जीव ३) ।

११ हारोभासभद्द पु [हारा-वभासभद्र] अर्धहारोभास नामक द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।

१२ हारोभासमहावर पुं [हारोभासमहावर] पूर्वोक्त ही अर्थ (जीव ३) ।

१३ हारोभासमहावर पुं [हारोभासमहावर] अर्धहारोभास नामक समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।

१४ हारोभासवर पु [हारोभासवर] देखो पूर्वोक्त अर्थ (जीव ३) ।

१५ हारि पु [हृदिक] एक प्रकार का परिमाण, आढक का आधा भाग (ठा ३, १) ।

अद्ध पु [अध्वन्] मार्ग, रास्ता (महा, आचा) ।

अद्धत पुं [दे] १ पर्यन्त, अन्त भाग (दे १, १८, से ६, ३२, पाअ), 'भरिज्जेतसिद्धपहदन्तो' (विक्र १०१) । २ पु व कतिपय, कईएक (से १३, ३२) ।

अद्धक्खण न [दे] १ प्रतीक्षा करना, राह देखना (दे १, ३४) । २ परीक्षा करना (दे १, ३४) ।

अमर पुं [अमर] १ देव, देवता (पात्र) । २ मुक्त आत्मा (श्रीप) । ३ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । ४ अनन्तवीर्य नामक भावी जिनदेव के पूर्वजन्म का नाम (ती २१) । ५ वि मरणरहित, 'पावति अविषेण जीवा अयरामरं ठाण' (पडि) । °कका स्त्री [°कका] एक नगरी का नाम (उप ६४८ टी) । °केड पु [°केतु] एक राजकुमार (दंस) । °गिरि पुं [°गिरि] मेरु पर्वत (पउम ६५, ३७) । °गेह न [°गेह] स्वर्ग (उप ७२८ टी) । °चन्दण न [°चन्दन] १ हरिचन्दन वृक्ष । २ एक प्रकार का सुगन्धित काष्ठ (पात्र) । °तरु पु [°तरु] कल्पवृक्ष (सुपा ४४) । °दत्त पु [°दत्त] एक श्रेष्ठि-पुत्र का नाम (धम्म) । °नाह पु [°नाथ] इन्द्र (पउम १०१, ७५) । °पुर न [°पुर] स्वर्ग (पउम २, १४) । °पुरी स्त्री [°पुरी] स्वर्गपुरी, अमरावती (उप पृ १०५) । °पभ पु [°प्रभ] वानर-द्वीप का एक राजा (पउम ६, ६६) । °वइ पु [°पति] इन्द्र (पउम १०१, ७०, सुर १, १) । °वहू स्त्री [°वधू] देवी (महा) । °सामि पु [°धामिन्] इन्द्र (विसे १४३६ टी) । °सेण पु [°सेन] १ एक राजा का नाम (दंस) । २ एक राजकुमार का नाम (एया १ ८) । °लिय वि [°लिय] स्वर्ग, 'चविउममरालयाए' (उप ७२८ टी, सुपा ३५) । °वई स्त्री [°वती] १ देव-नगरी, स्वर्ग-पुरी (पात्र) । २ मर्त्य लोक की एक नगरी, राजा श्रीसेन की राजधानी (उप ६८६ टी) ।

अमरगणा स्त्री [अमराङ्गना] देवी (था २७) ।

अमरिंद पु [अमरेन्द्र] देवो का राजा, इन्द्र (भवि) ।

अमरिस पु [अमरिष] १ असहिष्णुता (हे २, १०५) । २ कदाग्रह (उत्त ३४) । ३ क्रोध, युस्ता (पएह १, ३, पात्र) ।

अमरिसण न [अमरिषण] १—३ ज्वर देखो । ४ वि असहिष्णु, क्रोधी (पएह १, ४) । ५ सहिष्णु, क्षमाशील (मम १५३) ।

अमरिसण वि [अमरिषण] उद्यमी, उद्योगी (सम १५३) ।

अमरिसिय वि [अमरिषित] १ मत्सरी, असहिष्णु (भावम, स ५६५) ।

अमरी स्त्री [अमरी] देवी (कुमा) ।

अमरीस पु [अमरेश] इन्द्र (वेइय ३१०) ।

अमल वि [अमल] १ निर्मल, स्वच्छ (उव, सुपा ३४) । २ पुं भगवान् ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम (राज) ।

अमला स्त्री [अमला] शक्र की एक अग्र-महिषी का नाम, इन्द्राणी-विशेष (ठा ८) ।

अमवस्ता देखो अमावस्ता (पचा १६, २०) ।

अमाइ १ वि [अमायिन्] निष्कपट, सरल अमाइल (भाचा, ठा १०, द्र ४७) ।

अमाघाय देखो अमघाय (उवा) ।

अमाण वि [अमान] १ गवंरहित, नन्न (कप्प) । २ असत्य, 'ठाणट्टाणविलोइज्जमाणमाणीसहिंसुहो' (उव ६ टी) ।

अमाय वि [अमान] नहीं समया हुआ, 'सुसाहुवगत्स मणे अमाया' (सत्त ३५) ।

अमाय वि [अमाय] निष्कपट, सरल (कप्प) ।

अमायि देखो अमाइ (भग) ।

अमारि स्त्री [अमारि] हिंसा-निवारण, जीवित-

दान (सुपा ११२) । °घोस पु [°घोष]

अहिंसा की घोषणा (सुपा ३०६) । °पडह पु

[°पटह] हिंसा निषेध का डिरिडम, 'अमा रिपडह च घोसावेद' (रयण ६०) ।

अमावसा } स्त्री [अमावास्या] तिथि
अमावस्ता } विशेष, अमावस (कप्प, सुपा
अमावासा } २२६; एया १, १०, वद १०) ।

अमिज्ज वि [अमेय] माप करने के लिए अशक्य, असत्य (कप्प) ।

अमिज्ज न [अमेय] १ अशुचि वस्तु 'नरियममिज्जस्त इरहिगघस्त' (उम ७२८ टी) । २ विद्या (सुपा ३१३) ।

अमित्त पुन [अमित्त] रिपु, दुश्मन (ठा, ४, ४, से ५, १७) ।

अमिय देखो अमय = अमृत (प्रामू १, गा २, विसे, भावम, पिण) । °कुड न [°कुण्ड] नगर विशेष का नाम (सुपा ५७८) । °गइ स्त्री [°गति] एक छन्द का नाम (पिा) । °णाणि पुं [°ज्ञानिन्] ऐरवत क्षेत्र के एक

तीर्थंकर देव का नाम (सम १५३) । °भूच वि [भूत] अमृत तुल्य (माउ) । °मेह पु [°मेघ] अमृतवर्षा (ज ३) । °रुइ पु [°रुचि] चन्द्र, चन्द्रमा (था १६) ।

अमिय वि [अमित्त] परिमाण रहित, असत्य, अनन्त (भग ५, ४, सुपा ३१, था २७) ।

°गइ पु [°गति] दक्षिण दिशा के एक इन्द्र का नाम, दिक्कुमारों का इन्द्र (ठा २, ३) ।

°जस पु [°यशास्] एक चक्रगती राजा का नाम (महा) । °णाणि वि [°ज्ञानिन्] १ सर्वज्ञ (विदे) । २ ऐरवत क्षेत्र के एक जिन-

देव का नाम (सम १५३) । °तैय पुं [°तैजस्] एक जैन मुनि का नाम (उप ७६८ टी) । °वल पु [°वल] इक्ष्वाकु वंश के

एक राजा का नाम (पउम ६, ४) । °वाहण पु [°वाहन] दिक्कुमार देवों के एक इन्द्र का

नाम (ठा २, ३) । °वेग पु [°वेग] रानस वंश के एक राजा का नाम (पउम ६, २६१) ।

°सणिय वि [°सनिक्क] एक स्थान पर नहीं बैठनेवाला, चल (कप्प) ।

अमिल न [दे] ऊन का बना हुआ वस्त्र (था १८) । २ पु मेघ, भेद (श्रीप ३६८) ।

अमिल वि [दे आमिल] अमित्त देश में बना हुआ (भाचा २, ५, १, ५) ।

अमिला स्त्री [अमिला] १ वीसवें जिनदेव की प्रथम शिष्या (मम १५२) । २ पाठी, छोटी भैंस (वह १) ।

अमिलाय } वि [अम्लान] १ म्यान-
अमिलाय } रहित, ताजा, हट्ट (सुर ३, ६५, भग ११, ११) । २ पु कुरएटक वृक्ष । ३ न

कुरएटक वृक्ष का पुष्प (दे १, ३७) ।

अमु त [अदस्] वह, अमुक (पि ८३२) ।

अमुअ म [अमुक] वह, कोई, अमना-उमता (श्रीप ३२ भा, सुपा ३१४) ।

अमुअ देवो अमय = अमृत (प्रामू ५१, गा ६७६) ।

अमुअ देवो अमय = अमय (रात्र ७७७) ।

अमुअ वि [अमृत] म्मरण के नहीं भाग हुआ (भा ३, ६) ।

अमुइ वि [अमोचिन्] नहीं छोड़नेवाला (उव) ।

अमुग देवो अमुअ = अमृत (सुपा) ।

ममता-रहित, निर्मम, 'अपरिगहा अणारभा भिन्नू ताए परिबण' (सूत्र १, १, ४)।

अपरिगहा स्त्री [अपरिग्रहा] केश्या (वच २)।

अपरिगहिआ स्त्री [अपरिगृहीता] १ केश्या, कन्या बनेरह अविवाहिता स्त्री (पडि)। २ पति होना स्त्री, विधवा (वच २)। ३ घर-दानी। ४ पनहारी। ५ देव-पुत्रिका, देवता को मंद की हुई कन्या (श्राद्ध ५)।

अपरिच्छण्य वि [अपरिच्छन्न] १ नहीं अपरिच्छन्न } ढका हुआ, अनाद्युत (वच ३)। २ परिवार रहित (वच १)।

अपरिणय वि [अपरिणत] १ ल्पान्तर को अग्रत (हा २, १)। २ जैन साधु की भिन्ना वा एक दोष। (आचा)।

अपरित वि [अपरीत] अपरिमित, अनन्त (पण १८)।

अपरिसेस वि [अपरिशेष] सब, सकल, नि शेष (परह १, २, पठम ३, १४०)।

अपरिहारिय वि [अपरिहारिक] १ दोषो का परिहार नहीं करनेवाला। (आचा)। २ पु जनेतर दर्शन का अनुभाषी गृहस्थ (नित्त २)।

अपवग्ग पु [अपवर्ग] मोक्ष, मुक्ति (सुर ८, १०६, सत ११)।

अपविद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेरित (सि ७, ११)। २ न गुरु-चन्दन का एक दोष, गुरु को चन्दन करने तुरन्त ही भाग जाना (पुना २३)।

अपह वि [अप्रभ] निस्तेज (दे १, १६४)।

अपहस्य देवो अवहस्य (भवि)।

अपहारि वि [अपहारिन्] अपहरण करने-वाला (म २१७)।

अपहिरि वि [अपहृत] छोना हुआ (पठम २६, ५)।

अपहृ वि [अप्रसु] १ अनमर्ष। २ नाय-रहित, अनाथ (पठम १०१, ३५)।

अपाहरि वि [अपात्रित] पाय-रहित, मानन-वाँट, 'नो कस्यइ निगवीए अपाड्याए होण' (पउ)।

अपाडड वि [अपाट्टव] नहीं ढका हुआ, अपर-रहित, नम (हा ५, १)।

अपादान न [अपादान] कारक-विशेष, जिसमें पञ्चमी विभक्ति लगती है (विसे २११७)।

अपाण न [अपान] १ पान का अभाव। (उप ८४५)। २ पानी जैसा ठंडा पेय वस्तु-विशेष। (भग १५)। ३ पुंन अपान वायु। ४ युदा (सुपा ६२०)। ५ वि. जल-वर्जित, निर्जल (उपवास), 'इट्ठेण भतेण अपाणएण' (ज २)।

अपायावगम पु [अपायावगम] जिनदेव का एक अतिशय (सबोध २)।

अपार वि [अपार] पार-रहित, अनन्त (सुपा ४५०)।

अपारमग्ग पु [दे] विश्राम, विश्रान्ति (दे १, ४३)।

अपाव वि [अपाप] १ पाप-रहित (सूत्र १, १, ३)। २ न पुण्य (उव)।

अपावा स्त्री [अपापा] नगरी-विशेष, जहां भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ था, यह आजकल 'पावापुरी' नाम से प्रसिद्ध है और विहार से आठ माईल पर है (राज)।

अपिट्ठ वि [दे] पुनश्च, फिरसे कहा हुआ (पट्ट)।

अपिये वि [अप्रिय] अनिष्ट (जीव १)।

अपिह अ [अपृथक्] अ-भिन्न (कुमा)।

अपुणवघग्ग वि [अपुनर्वन्धक] फिर से अपुणवधय } उच्छ्रुत कर्मबन्ध नहीं करने वाला, तीव्र भाव से पाप को नहीं करने वाला (पचा ३, उप २५३, २५१)।

अपुणवभव पु [अपुनर्भव] १ फिर से नहीं होना। २ वि जिससे फिर जन्म न हो वह, मुक्ति-प्रद (परह २, ४)।

अपुणवभाव वि [अपुनर्भाव] फिर से नहीं होनेवाला (पच १)।

अपुणभव देखो अपुणवभव (कुमा)।

अपुणरागम पु [अपुनरागम] १ मुक्त आत्मा। २ मुक्ति, मोक्ष (वसट्ट १)।

अपुणरावत्तग पु [अपुनरावत्तक] १ अपुणरावत्तय } फिर नहीं ध्रमने वाला, मुक्त आत्मा। २ मोक्ष, मुक्ति (पि ३४३, औप, भग १ १)।

अपुणरावत्ति पु [अपुनरावत्तिन्] मुक्त आत्मा (पि ३४३)।

अपुणरावित्ति पु [अपुनरावृत्ति] मोक्ष, मुक्ति (पडि)।

अपुणरुत्त वि [अपुनरुत्त] फिर से अकथित, पुनश्च-दोष से रहित, 'अपुणरुत्तेहि महा-वित्तेहि सधुणइ' (राय)।

अपुणागम देखो अपुणरागम (पि ३४३)।

अपुणागमण न [अपुनरागमन] १ फिर से नहीं आना। २ फिर से अनुत्पत्ति, 'अपुणा-गमणाय व त तिमि र उम्भूलिअ रविणा' (गच्छ)।

अपुण्ण न [अपुण्य] १ पाप। २ वि पुण्य-रहित, कम-नसीब, हत-भाग्य (विपा १, ७)।

अपुण्ण वि [अपूर्णे] अवृत्त, अपरिपूर्ण (विपा १, ७)।

अपुण्ण वि [दे] आक्रान्त (पट्ट)।

अपुत्त } वि [अपुत्र, क] १ पुत्र-रहित } (सुपा ४१२, ३१४)। २ स्वजन-रहित, निर्मम, नि स्थुह (आचा)।

अपुत्त देखो अपुण्ण (पणा १, १३)।

अपुम न [अपुस्] नपुसक (शोध २२३)।

अपुल्ल देखो अपुण्ण (चड)।

अपुण्व वि [अपूर्व] १ नूतन, नवीन। २ अद्भुत, आश्चर्यकारक। ३ असाधारण, अद्वितीय (हे ४, २७०, उप ६ टी)। १ करण न [करण] १ आत्मा का एक अनुभूतपूर्व शुभ परिणाम (आचा)। २ आठवाँ गुण-स्थानक (पच २२४, कम्म ३, ६)।

अपूय } पु [अपूप] एक भक्ष्य पदार्थ, पुआ, अपूर्व } पूड़ी (औप, पण ३६, दे १, १३४, ६, ८१)।

अपेक्ख सक [अप+इक्ष्] अपेक्षा करना, राह देखना। हेऊ. अपेक्खिहुँ (शौ) (नाट)।

अपेक्ख वि [अपेक्ष्य] १ देखने के अशक्य। २ देखने के अयोग्य (उव)।

अपेय वि [अपेय] पीने के अयोग्य, मद्य आदि (कुमा)।

अपेय वि [अपेत] गया हुआ, नष्ट, 'अपेय-चक्खुं (वृह १)।

अपेह्य वि [अपेक्षक] अपेक्षा करने वाला (भाव ४)।

अय न [अयस्] लोहा, लोह (श्लो ६२) ।
 आगर पु [आकर] १ लोहे की खान (निबू ५) । २ लोहे का कारखाना (ठा ८) ।
 कत, कखत पु [कान्त] लोह-चुम्बक (भावम) । कडिल न [दे कडिल] कटाह (श्लो) । कुडी ली [कुण्डी] लोहे का भाजन-विशेष (विपा १, ६) । कोट्टय पु [कोटक] लोहे का कुशूल, लोहे का गोला, 'पोट्ट अयकोट्टया व्व वट्ट' (उवा) । गोलय पु [गोलक] लोहे का गोला (श्रा १९) ।
 दव्वी ली [दवी] लोहे की कडली या कर्छुल, जिससे दाल, कढ़ी आदि हिलाया जाता है (दे २, ७) । पाय न [पात्र] लोहे का भाजन । सलागा ली [शलाका] लोहे की सलाई (उप २११ टी) ।
 अय सक [अय्] १ गमन करना, जाना । २ प्राप्त करना । ३ जानना । वक्क अयमाण (सम ६३) ।
 अयल्ल सक [कृप्] १ खीचना । २ जोतना, चास करना । ३ रेखा करना । अयल्ल (हे ४, १८७) ।
 अयल्लिर वि [कर्पिन्] कर्पणशील, खीचने-वाला (कुमा) ।
 अयल्ल पु [अकाण्ड] १ अनुचित समय (महा) । २ अकल्मात्, हठात् (पउम ५, १६४ से ४४, गउड) । ३ क्रिदि अनवारित, अतर्कित (पात्र) ।
 अयत वक्क [आयत्] आता हुआ, प्रवेश करता हुआ (भावम) ।
 अयनिय वि [अयन्त्रित] अनारदरणीय (उत्त २०, ४२) ।
 अयपिर वि [अजलिपट्ट] नहीं बोलनेवाला, मौनी (वि २६६, ५६६) ।
 अयपुल पुं [अयपुल] गीशालक का एक शिष्य (भग ८, ५) ।
 अयंस पुं [आदर्श] दर्शन, कांच । मुह पु [मुख] १ इस नाम का एक द्वीप । २ द्वीप-विशेष का निवासी (इक) ।
 अयसधि वि [इदंसधि] उपयुक्त कार्य को यथासमय करनेवाला (भाचा) ।
 अयकरय पु [अयकरक] एक महाग्रह (सुज २०) ।

अयक } पु [दे] दानव, असुर (दे १, ६) ।
 अयग }
 अयगर पु [अजगर] अजगर, मोटा सांप (पएह १, १, पउम ६३, ५४) ।
 अयड पु [दे अचट] कूप, कुंआ (दे १, १८) ।
 अयण न [अतन] सतत होना, निरन्तर होना (विसे ३५७८) ।
 अयण न [अयन] १ गमन । २ प्राप्ति, लाभ (विसे ८३) । ३ ज्ञान, निर्णय (विसे ८३) । ४ गृह, मन्दिर, 'चडियायण' (स ४३५) । ५ वि प्रापक, प्राप्त करनेवाला (विसे ६६०) । ६ पुन वर्ष का आधा भाग, जिसमें सूर्य दक्षिण से उत्तर में या उत्तर से दक्षिण में जाता है (ठा २, ४),
 'एक्के अग्रणे दिग्रह, वीए रत्तणीयो होति दीहायो ।
 विरहाग्रणो अउव्वो, इत्य दुवे च्चेन्न वडहति' (गा ८४६) ।
 अयण न [अदन] १ भक्षण । २ खुराक, भोजन (स १३०, उर ८, ७) ।
 अयणु वि [अज्ञ] अज्ञान, मूर्ख (मुर ३, १६६) ।
 अयणु वि [अतनु] स्थूल, मोटा, महान (सण) ।
 अयतचिअ वि [दे] पुट्ट, उपचित (दे १, ४७) ।
 अयर वि [अजर] वृद्धावस्थारहित 'अयरामर ठए' (पडि, उव) ।
 अयर पुन [अतर] १ सागर, समुद्र (द २८) । २ समय का मान विशेष, सागरोपम (भग २१, २५, धण ४३) । ३ वि तरने के अशक्य (वृह १) । ४ असमर्थ, अशक्त (निबू १) । ५ ग्लान, वीमार (वृह १) ।
 अयरामर वि [अजामर] १ जरा और मरण से रहित (नव २) । २ न मुक्ति, मोक्ष (पउम ८, १२७) ।
 अयल देवो अचल = अचल (पात्र, गउड, उप वृ १०५; अत ३, पउम ८५, ४, सम ८८, कप्प, सम १६) ।
 अयला देवो अचला (पउम १२०, १५६) ।
 अयस देवो अजस (गउड, प्रासू २३, १५३, गा १७८) ।

अयसि वि [अयशरिन्] अजसी, यशो-रहित, कीर्ति शून्य (गउड) ।
 अयसि } ली [अतसी] धान्य-विशेष, अजसी,
 अयसी } लीसी (भग, ठा ७, श्याया १, ५) ।
 अया ली [अजा] १ बकरी । २ माया, अविद्या । ३ प्रकृति, कुदरत (हे ३, ३२, पड्) । 'किवाणिज्जपु [कृपाणीय] न्याय विशेष, जैसे बकरी के गले पर अनवारी दुर्ग पडती है उस माफिक अनवारा किसी काम का होना (भाचा) । 'पाल पु [पाल] आभीर, बकरी चरानेवाला (स २६०) । 'वय पु [वज्र] बकरी का दाढ़ा (भग १६, ३) ।
 अयागर देवो अय-आगर (ठा ८) ।
 अयाण न [अज्ञान] ज्ञान का अभाव (सत्त ६३) ।
 अयाण वि [अज्ञ, अज्ञान] अज्ञान, अज्ञानी, मूर्ख (श्लो ७४, पउम २२, ८३, गा २७५, दे ७, ७३) ।
 अयाणअ वि [अज्ञायक] ऊपर देखो (पात्र; भवि) ।
 अयाणत देवो अजाणत (श्लो ११) ।
 अयाणमाण देवो अजाणमाण (नव ३६) ।
 अयाणिय देवो अजाणिय (उप ७२८ टी) ।
 अयाणुय देवो अजाणुय (मुर ३, १६८, मुपा ५४३) ।
 अयार पु [अकर] 'अ' अक्षर (विने ४७८) ।
 अयाल पु [अकाल] अयोग्य समय, अनुचित काल (पउम २२, ८५) ।
 अयालि पु [दे] दुःख, मेघाच्छन्न दिवस (दे १, १३) ।
 अयालिय वि [अकालिक] आतन्त्रित, अकारणोत्पन्न; 'पडउ पडउ एयन्त इत्यन्ते प्रयालिया विज्जू' (रभा) ।
 अयि देवो अइ = अयि (दे २, २१७) ।
 अयुजरेवड ली [दे] अचिन्त-युगति, तयोडा, दुर्नश्न (पड्) ।
 अयोमय देवो अओ-अय (अत १६) ।
 अय्यादन (जी) वृ [आर्गधर्व] अय्य हिन्दुत्वान (मुमा) ।
 अय्युग (ना) देवो अय्युग (दे ४, २६०) ।
 अर पुं [अर] १ पुरी, परिवे के गोपरा बाट । २ प्रतापवान् जिनसे और राजा

अप्यङ्गिद्य वि [अल्पङ्गिक] थोडी ऋद्धि-
वाला, अल्प वैभववाला (सुपा ४३०) ।

अप्यण न [अर्पण] १ भेंट, उपहार, दान
(श्रा २७) । २ प्रघान रूप से प्रतिपादन (वित्ते
१८४३) ।

अप्यण देखो अप्य = आत्मन् (आचा, उत्त
१, महा, हे ४, ४२२) ।

अप्यण वि [आत्मीय] स्वकीय, निजका, 'नो
अप्यणा परया गुहणी कइयावि होति सुद्धाण'
(सट्ठि १०५) ।

अप्यणय वि [आत्मीय] स्वकीय, निजी
(पउम ५०, १६, सुपा २७६, हे २, १५३) ।

अप्यणा अ [स्वयम्] स्वय, आप, निज,
बुद (पइ) ।

अप्यणिज्ज } वि [आत्मीय] स्वकीय,
अप्यणिज्जिय } स्वीय (ठा १, आवम) ।

अप्यणो अ [स्वयम्] आप, बुद, निज,
'विअमति अप्यणो चैव कमलसरा' (हे २,
२०६) ।

अप्यणण देखो अकम = आ + कम् । अप्यणणइ
(प्राहु ७३) ।

अप्यणुअ देखो अप्यजाणुअ = आत्मज,
अन्यत (प्राहु १८) ।

अप्यतक्किय वि [अप्रतर्कित] अविताकित,
अनभावित (स ५३०) ।

अप्यत पुन [अपात्र] १ अयोग्य, नालायक,
कुपात्र 'अएणेवि हु अप्यत्ता पररिद्धि नेय
विचहति' (सुर ३, ४५, गा १५७) । २ वि
आधार-रहित, भाजन-शून्य (सुर १३, ४५) ।

अप्यत्त वि [अपात्र] १ पत्ता से रहित (बुवा)
(सुर ३, ४५) । २ पात्र से रहित (पत्ती)
(सूत्र १, १५) ।

अप्यत्त नि [अप्राप्त] अलब्ध, अनवाप्त (सुर
१३, ४५, श्लो ८६) । १ कारि वि [कारिन्]
बन्नु वा विना म्परां किये हो (दूर से) ज्ञान
उपान्त बरलैपत्ता, 'अप्यत्तकारि एणए'
(विने) ।

अप्यत्तिय न [अप्रीति] १ अप्रीति, प्रेम का
अभाव (ठा ४, ३) । २ क्रोध, गुस्ता (सूत्र
१, १, २) । ३ मानसिक पीडा (आचा) ।
४ अकार (निबू १) ।

अप्यत्तिय वि [अपात्रिक] पात्र-रहित,
आधार-वर्जित (भग १६, ३) ।

अप्यत्तियण न [अप्रत्ययन] अविश्वास,
अश्रद्धा (उप ३१२) ।

अप्यत्थ वि [अप्रार्थ्य] १ प्रार्थना करने के
अयोग्य । २ नहीं चाहने लायक (सुपा ३३६) ।

अप्यत्थण न [अप्रार्थन] १ अयाच्चा । २
अनिच्छा, अचाह (उत्त ३२) ।

अप्यत्थिय वि [अप्रार्थित] १ अयाचित ।
२ अनभिलषित, अवाञ्छित (ज ३) । १ पत्थय,
पत्थिय वि [प्रार्थक, पत्थिक] मरणार्थी,
मौत को चाहनेवाला, 'कीस ए एस अप्यत्थिय-
पत्थए दुरतपतलक्खणे' (भग ३, २, एणया
१, ६, पि ७१) ।

अप्यत्थ्युय वि [अप्रस्तुत] प्रसंग के अनुपयुक्त,
विषयान्तर (सुपा १०६) ।

अप्यदुट्ठ वि [अप्रद्विष्ट] जिसपर द्वेष न हो
वह, प्रीतिकर (श्लो ७४४) ।

अप्यदुस्समाण वक्क [अप्रद्विष्यत] द्वेष नहीं
करता हुआ (अत १२) ।

अप्यप्प वि [अप्राप्य] प्राप्त करने के अशक्य
(विसे २६८७) ।

अप्यभाय न [अप्रभात] १ बली सबेर । २
वि प्रकाश-रहित, कान्ति-वर्जित, 'अज्ज पुएण
अप्यभाए गयेणे' (सुर ११, ११०) ।

अप्यभु वि [अप्रभु] १ असमर्थ (भग) । २
पु मालिक से भिन्न, नौकर वगैरह (धर्म ३) ।

अप्यमज्जिय वि [अप्रमार्जित] साफ नहीं
किया हुआ (उवा) ।

अप्यमत्त वि [अप्रमत्त] प्रमाद-रहित, साव-
धान, उपयोगवाला (पएह २, ५, हे १, २३१,
अभि १८५) । १ सजय पुंजी [सयत्त] १

पढति नाए तह विति दाएणं, सव्वंपि
तेसि कयमप्यमाण' (सत्त २०) ।

अप्यमाय पुं [अप्रमाद] प्रमाद का अभाव
(निबू १) ।

अप्यमेय वि [अप्रमेय] १ जिसका माप न
हो सके, अनन्त (पउम ७५, २३) । २ जिसका
ज्ञान न हो सके (धर्म १) । ३ प्रमाण से
जिसका निश्चय न किया जा सके वह (पएह
१, ४) ।

अप्यय देखो अप्य (उव, पि ४०१) ।

अप्यरिचत्त वि [अपरित्यक्त] नहीं छो
हुआ, अपरिमुक्त (सुपा ११०) ।

अप्यरिवाडिय वि [अपरिपत्तित] अनष्ट-
विद्यमान (श्रा ६) ।

अप्यलहुअ वि [अप्रलघुक] महान्, बडा (से
१, १) ।

अप्यलीण वि [अप्रलीन] असंब-
वर्जित (सूत्र १, १, ४) ।

अप्यलीयमाण वक्क [अप्रलोचयमान] आसक्ति
नहीं करता हुआ (आचा) ।

अप्यवित्त वि [अप्रवृत्त] प्रवृत्ति-रहित (पंचा
१४) ।

अप्यवित्ति व्ही [अप्रवृत्ति] प्रवृत्ति का अभाव
(धर्म १) ।

अप्यसत्त वि [अप्रशान्त] अशान्त, कुपि
(पचा २) ।

अप्यससणिज्ज वि [अप्रशंसनीय]
के अयोग्य (तदु) ।

अप्यसज्ज वि [अप्रसह्य] १ स
क्य । २ सहन करने के अयोग्य

अप्यसण्ण वि [अप्रसन्न] उः
अप्यसत्थ वि [अप्रशस्त] १

खराब (ठा ३, ३, भग, श्रा ५
अप्यसत्तिय वि [अल्पसत्ति

वाला, 'सुसमत्थाविसमत्था व
पुरिसा' (सूत्र १, ४, १) ।

अप्यसारिय वि [अप्रसारिय]
(स्थान) (उप १७०) ।

गु—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य (सूत्र १, १, ४) । ^०दमण वि [^०दमन] १ रिपु विनाशक । २ पु इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पञ्चम ५, ७) । ३ एक जैन मुनि जो भगवान् अजितनाथ के पूर्वजन्म के गुरु थे (पञ्चम २०, ७) । ^०दमणी स्त्री [^०दमनी] विद्या विशेष (पञ्चम ७, १४५) । ^०विद्धसी स्त्री [^०विध्व-नी] रिपु का नाश करनेवाली एक विद्या (पञ्चम ७, १४०) । ^०सतास पु [^०सत्तास] राजसभ्य में उत्पन्न लड्डा का एक राजा (पञ्चम ५, २६५) । ^०हत वि [^०हन्तृ] १ रिपु-विनाशक । २ पुं जिनदेव (भावम) ।

^०अहिलि पुत्री [^०दे] व्याघ्र, शेर (दे १, २४) । जय पु [^०अरिअय] १ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र । २ न. नगर-विशेष (पञ्चम ५, १०६, इन्द्र सुर ५, १०३) ।

^०दृष्ट पु [^०अरिष्ट] १ वृक्ष-विशेष (परण १) । २ पनरहं तीर्थकर का एक गणेश्वर (सम २, २) । ३ पुन एक देवविमान (देवेन्द्र २, ३) । ४ न गोत्र-विशेष, जो मारुडव्य गोत्र की शाखा है (ठा ७) । ५ रत्न की एक जाति (ठा ३४, ४, सुपा ६) । ६ फल-विशेष, (परण १७, उत ३४, ४) । ७ अनिष्ट-सूचक रसात (आर्) । ^०णमि, ^०नेमि पुं [^०नमि] वर्तमान काल के वाईमवें जिनदेव (सम १७ अत ५, कप्प, पडि) ।

अरिद्धा स्त्री [^०अरिष्टा] कच्छ नामक विजय के राजाणी (ठा २, ३) ।

अरिन्न [^०अरिन्न] पतवार, कान्हर, नाव की मछली का डांड, जिससे नाव दाहिने-बाये घुमायी जाती है (धर्मवि १३०) ।

अरिरीहो अ [^०अरिरीहो] पादपूरक अव्यय (२, १७) ।

अरिस्स नो अरस्स (शाया १, १३) ।

अरिह देखो अरह = अहंत (हे २, १११, पड) । ^०दत्त, ^०दिण्ण पु [^०दत्त] जैन मुनि-विशेष का नाम (कप्प) ।

अरिहणा देखो अरहणा (प्राक्क २=) ।

अरिहंत देखो अरहंत = अहंत (हे २, १११, पड, शाया १ १) । ^०चेइय न [^०चैय] १ जिन-मन्दिर (उवा, आर्) । ^०सासण न [^०शासन] १ जैन आगम-ग्रन्थ । २ जिन-आज्ञा (परह २, ५) ।

^०अरु देखो तरु (से २, १६, ५, ८५) ।

अरु वि [^०अरुज्] रोग-रहित (तदु ४६) ।

अरु देखो अरुव (तदु ४६) ।

अरुग न [^०दे अरुक] ब्रण, घाव, 'अरुग इहरा कुत्थइ' (वृह ३) ।

अरुतुद वि [^०अरुतुद] १ मर्म-वेधक । २ मर्म-स्पर्शी, 'इय तदरुतुदवायावारोह विवि-यस्सावि' (सम्मत्त १५८) ।

अरुण पु [^०अरुण] १ सूर्य, सूरज (से ३, ६) । २ सूर्य का सारथी । ३ सव्याराग, सव्या की लाली (से ८, ७) । ४ द्वीप-विशेष । ५ समुद्र-विशेष, 'गतूण होइ अरुणो, अरुणो दीवो तत्रो उदही' (दीव) । ६ एक ग्रह-देवता का नाम (ठा २, ३, पत्र ७=) । ७ गन्वावती-पर्वत का अविष्ठाता देव (ठा २, ३, पत्र ६६) । ८ देव-विशेष (एदि) । ९ रक्त रंग, लाली (गठड) । १० न. विमान विशेष (सम १२) । ११ वि रक्त, लाल (गठड) । ^०कंत न [^०कान्त] देवविमान-विशेष (उवा) । [^०कील] न [^०कील] देवविमान-विशेष (उवा) । ^०गगा स्त्री [^०गङ्गा] महाराष्ट्र-देश की एक नदी (ती २=) । ^०गय न [^०गय] देवविमान-विशेष (उवा) । ^०उमय न [^०ध्वज] एक देवविमान का नाम (उवा) । ^०पभ. ^०पव न [^०प्रभ] इन

^०वर पुं [^०वर] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष (सुज १६) । ^०वरोभास पु [^०वरावभास] १ द्वीप-विशेष । २ समुद्र-विशेष (सुज १६) । ^०सिट्ट न [^०शिष्ट] एक देवविमान (उवा) । ^०भ न [^०भ] देवविमान-विशेष (उवा) ।

अरुण न [^०दे] कमल, पद्म (दे १, ८) ।

अरुण पुन [^०अरुण] १ एक देव-विमान । (देवेन्द्र १३१) । ^०पभ पु [^०प्रभ] १ अनुवेलन्वर नामक नागराज का एक श्रावण-पर्वत । २ उस पर्वत का निवासी देव । (ठा ४, २, पत्र २२६) । ^०भ पु [^०भ] कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज २०) ।

अरुणिम पुत्री [^०अरुणिमन्] लाली, रक्त, 'पाणिपह्वाहणिमरमणोय' (सुपा ५=) ।

अरुणिय वि [^०अरुणित] रक्त, लाल (गठड) ।

अरुणुत्तरवडिंसग न [^०अरुणोत्तरावतसरु] इस नाम का एक देवविमान (सम १४) ।

अरुणोद पु [^०अरुणोद] समुद्र-विशेष (सुज १६) ।

अरुणोदय पु [^०अरुणोदरु] समुद्र-विशेष (भग) ।

अरुणोववाय पु [^०अरुणोपपात] ग्रन्थ-विशेष का नाम (एदि) ।

अरुय वि [^०अरुप्] ब्रण, घाव (सूत्र १, ३, ३) ।

अरुय वि [^०अरुज्] निरोगी, रोगरहित (सम १, अजि २१) ।

अरुह देखो अरह = अहंत (हे २, १११, पड, भवि) ।

अरुह वि [^०अरुह] १ जन्मरहित । २ पुं मुक्त आत्मा (पत्र २७५, भग १, १) । ३ निन्द-देव (पञ्चम ५, १२०) ।

अरुह देवो अरिह = अहंत । अरुहमि (प्रनि १०४) । वरु अरुहमाण (पड) ।

माय पुं [दे] भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष (पण १)।

फ़ास वि [अस्पर्श] १ स्पर्श-रहित (भग)।
२ धरात स्पर्श वाला (सूत्र १, ५, १)।

फ़ासुय वि [अप्रासुक] १ सचित्त, सजीव (भा ५, ६)। २ अघ्राह्य (मिक्षा) (ठा ३, १)।

अफुड वि [अरफुट] अस्पष्ट, अव्यक्त (सुर ३, १०६, २१३, गा २६६, उप ७२८ टी)।

अफुडिअ वि [अस्फुटित] अक्षरिण्डित, नहीं हूँ हुआ (कुमा)।

अफुस वि [अस्पृश्य] स्पर्श करने के अयोग्य (भा)।

अफुसिय वि [अभ्रान्त] भ्रम-रहित (कुमा)।

अफुस देखो अफुस (ठा ३, २)।

अम न [अम्रह] मैथुन, स्त्री-सङ्ग (परह १, ५)। चारि वि [चारिन्] ब्रह्मचर्य नहीं पालनेवाला (पि ४०५, ५१५)।

अयद्विय पु [अयद्विक] 'कर्मों का आत्मा से स्पर्श ही होता है न कि क्षीर-नीर की तरह ऐस्य' ऐसा माननेवाला एक निह्व-जनाभाव। २ न उसका मत (ठा ७, विसे)।

अयल वि [अयले] बल रहित, निर्द. (पउम ५, ११७)।

अयल स्त्री [अयला] स्त्री, महिला, जनाना (पाम)।

अयस पु [अवश] बढवानल (से १, १)।

अयद्विट्ट न [दे अयद्वित्थ] मैथुन, स्त्री-सङ्ग (सूत्र १, ६)।

अयहिम्मण वि [अयहिर्मनस्क] धर्मिष्ठ, परम-नत्पर (धावा)।

अयहिहेस वि [अयहिलोश्य] जिसकी अयहिहेस वि चित्त-वृत्ति बाहर न घूमती हो,

अबाहिरय वि [अबाह्य] भीतरी, आभ्यन्तर (वव १)।

अबाहिरिय वि [अबाहिरिक] जिसके किले के बाहर वसति न हो ऐसा गाँव या शहर (बृह १)।

अबीय देखो अवीय (कप्प)।

अबुज्झ अ [अबुद्ध्वा] नहीं जान कर, 'केसिंवि तक्काइ अबुज्झ भाव' (सूत्र १, १३, २०)।

अबुद्ध वि [अबुध] १ अज्ञान, मूर्ख। (दस २)। २ अविवेकी (सूत्र १, ११)।

अबुद्धिय १ वि [अबुद्धिक] बुद्धि-रहित, मूर्ख अबुद्धीय १ (राया १, १७, सूत्र १, २, १, पउम ८, ७४)।

अबुह वि [अबुध] १ अज्ञान। (सूत्र १, २, १, जी १)। २ मूर्ख, बेवकूफ (परह १, १)।

अबोह वि [अबोध] १ बोध-रहित, अज्ञान। २ पु ज्ञान का अभाव (धर्म १)।

अबोहि पुत्री [अबोधि] १ ज्ञान का अभाव (सूत्र २, ६)। २ जैन धर्म की अप्राप्ति। ३ बुद्धि-विशेष का अभाव (भग १, ६)। ४ मिथ्या-ज्ञान, 'अबोहि परियाणामि बोहि उवसप-जाम्पि' (पव ४)। ५ वि बोधि-रहित (भग)।

अबोहिय न [अबोधिक] ऊपर देखो (दस ६, सूत्र १, १, २)।

अव् स्त्री व [अप्] पानी, जल (आ २३)।

अव्वम देखो अवंभ (सुपा ३१०)।

अव्वंभण न [अव्वंभण्य] ब्रह्मण्य का अव्वंभण्य १ अभाव (नाट, प्रयौ ७६)।

अव्वीय देखो अवीय (त्रैय ७३८)।

अव्वमग सक [अभि + अव्व] तैल आदि से मदन करना, मालिश करना। अव्वमंगइ, अव्वमगेइ (महा)। सक अव्वमगिउं, अव्वमंगेत्ता, अव्वमगित्ता (ठा ३, १, पि २३४)। हेह अव्वमगेत्ताए (कस)।

अव्वमंग पु [अव्वमङ्ग] तैल-मदन, मालिश (निच्च ३)।

अव्वमण न [अव्वमञ्ज] ऊपर देखो (राया १, १, महा)।

अव्वमणिएल्लय १ वि [अव्वमञ्ज] तैलादि मे अव्वमणिय १ मदित, मालिश किया हुआ (शोध ८२, कप्प)।

अव्वमतर न [अव्वमन्तर] १ भीतर, मे (गा ६२३)। २ वि भीतर का, भीतरी (राय, महा)। ३ समीप का, नजदीक का (सम्बन्धी) (ठा ८)। ठाणिल्ल वि [स्थानीय] नजदीक के सम्बन्धी, कौटुम्बिक लोग (विपा १, ३)। तव पुं [तपस्] विनय, वैया-वृत्य, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान और कायो-त्सर्ग रूप अन्तरंग तप (ठा ६)। परिसा स्त्री [परिषद्] मित्र आदि समान जनो की समा (राय)। लद्धि स्त्री [लद्धि] अवधि-ज्ञान का एक भेद (विसे)। सवुक्का स्त्री [शम्बुका] मिक्षा की एक चर्चा, गति-विशेष (प ६)। सगडुद्धिया स्त्री [शक-टोद्धिका] कायोत्सर्ग एक दोष (पव ५)।

अव्वमंतर वि [अव्वमन्तर] भीतरी, भीतर का (ज ७, ठा २, १, परण ३६)।

अव्वमसि वि [अव्वमसिन्] १ अष्ट नहीं होन-वाला (नाट)। २ अण्ट (कुमा)।

अव्वमक्खइज्ज देखो अव्वमक्खा

अव्वमक्खण न [दे] अकीर्ति, अपयश (दे १, ३१)।

अलय पु [अलक] १ विच्छ का काटा ।
(विपा १, ६) । २ केश, धुंधराले बाल ।
(पात्र, स ६६) ।

अलया स्त्री [अलका] कुवेर की नगरी (पात्र,
गाथा १, ८) । देखो अलका ।

अलय वि [अल्प] मौनी, नही बोलनेवाला
(सूत्र २, ६) ।

अलयलयसह पु [दे] धूतं वैल (पड) ।

अलस वि [अलस] १ शालसी, सुस्त (प्रासू
७) । २ मन्द, धीमा (पात्र) । ३ पु सुद्र कीट-
विशेष, भू-नाग, वर्षाक्रतु मे सांभ सरोत्ता
जाल रग का जो लम्बा जन्तु उत्पन्न होता है
वह (जी १५, पुष्क २६५) ।

अलस वि [दे] १ मधुर आवाजवाला, 'ख
श्रलस कलमज्जुल' (पात्र) । २ कुसुम्भ रग से
रगा हुआ । ३ न मोम (दे १, ५२) ।

अलस देखो कलस (से १, ६, ११, ४०, गा
३६६) ।

अलसग २ पु [अलसक] १ विसूचिका रोग
अलसय (उवा) । २ श्वयथु, सूजन (आचा) ।

अलसाइअ वि [अलसायित] जिसने शालसी
की तरह आचरण किया हो, मन्द (गा ३५२) ।
अलसाय अक [अलसाय] शालसी होना,
शालसी की तरह काम करना । अलसायइ
(पि ५५८) । वक्र अलसायत, अलसाय-
माण (से १४, १, उप पु ३१५, गच्छ १) ।

अलमी देखो अयसी (आचा, पड, हे २,
११) ।

अला स्त्री [अला] १ इन नाम की एक देवी
(डा ६) । २ एक इन्द्राणी का नाम (गाथा
२) । ३ वडिसग न [अवतसक] अलादेरी
का भवन (गाथा २) ।

अला देखो कला (गा ६५७) ।

अलाउ न [अलानु] तुम्बी फन, लौकी, तुम्बा
(श्लो प्रामू १५१) ।

अलाऊ } स्त्री [अलावू] तुम्बी-लता
अलावू } (कुमा, पड) ।

अलाय न [अलान] १ उन्मुद, जनता हुआ
काष्ठ (दे १, १०७, श्लो २१ भा) । २ अनाप,
कोयला (से ३, ३४) ।

अलावणी स्त्री [अलावुवीगा] वीणा-विशेष
(प्राठ ३७) ।

अलावु देखो अलाउ (जे ३) ।

अलावू देखो अलाऊ (पि १४१, २०१) ।

अलाह पु [अलाभ] नुकसान, नैरलाम, 'व-
हरमाणाय पुणो होइ सुलाहो कयावलाहो
वा' (सुपा ४४६) ।

अलाहि देखो अल (उव ७२८ टी, हे २, १८६,
गाथा १, १, गा १२७) ।

अलि पु [अलि] भ्रमर (कुमा) । ० उल न
[कुल] भ्रमरो का समूह (हे ४, २५३) ।
विरुय न [विरुन] भ्रमर का गुञ्जारव
(पात्र) ।

अलि पुत्री [अलि] बुध्दिक राशि (विचार
१०६) ।

अलिअल्ली स्त्री [दे] १ कन्तूरी । २ व्याघ्र,
शेर (दे १, ५६) ।

अलिआ स्त्री [दे] सखी (दे १, १६) ।

अलिआर न [दे] दूध (दे १, २३) ।

अलिअर न [अलिअर] १ घडा, कुम्भ (डा
४, २) । २ कुड, पान-विशेष (दे १, ३७) ।

अलिअरअ पु [अलिअरक] १ घडा (उवा) ।
रगने का कुडा, रग-पान (पात्र) ।

अलिअ न [अलिअर] पान-विशेष, एक प्रकार
का जलपान (श्लो ४७६) ।

अलिअग पु [अलिअक] १ द्वार का प्रकोष्ठ
(स ४७६) । २ घर के बाहर के दरवाजे का
चोक । ३ बाहर का अग्र भाग (रुह २, राज) ।

अलिअय पुन [अलिअक] धान्य रखने का
पान-विशेष (अणु १५१) ।

अलिण पु [दे] बुध्दिक, विच्छ (दे १, ११) ।

अलिणी स्त्री [अलिनी] भ्रमरी (कुमा) ।

अलित्त न [अरित्र] नोना खेतने का डंड,
चप्पू (आचा २, ३१) ।

अलिय न [अलिक] कपाल (पात्र) ।

अलिय न [अलीक] १ मृगावाय, घमत्व
पचन (पात्र) । २ वि झूठा, बोडा, 'अनिअ-
पोत्सात्ता'—(पात्र) । ३ निष्कन्, निरयंक
(परह १, २) । ० वाइ नि [अनिअ] मृगा-
वादी (पउम ११, २७ महा) ।

अलिल्ल मक [अयय] पटाग, मानना ।
भनिल्ल (पिग) ।

अलिल्लह न [दे] १ छन्द विशेष का नाम ।
२ नि अत्रयोजक, नियमरहित (पिग) ।

अलिल्ला स्त्री [अलिल्ला] इन नाम का एक
छन्द (पिग) ।

अलीग } देखो अलिय = धलीक (सुर ४,
अलीय } २२३, सुपा ३००, महा) ।

अलीवहू स्त्री [अलिवधू] भ्रमरी (कुमा) ।

अलीसअ स्त्री पु [दे] शाक-वृक्ष, साग का
पेड (दे १, २७) ।

अलुक्खि वि [अरुक्खिन्] कोमल (भा
११, ४) ।

अलोसि वि [अलोसियन्] १ लेख्यारहित ।
२ पु मुक्त आत्मा (डा ३ ४) ।

अलोग पु [अलोक] जीव-मुद्धन आदि रहित
आकाश (भग) ।

अलोणिय वि [अलवणिक] लृणारहित नमन-
शून्य, 'नय अलोणिय गिन कोड चट्टेड'
(महा) ।

अलोय देखो अलोग (सम १) ।

अलोभ पु [अलोभ] १ लोभ का अमान,
सतोप । २ वि लोभरहित, संनोपी (भग-
ज्व) ।

अलोळ वि [अलोळ] अलम्पट, निर्लोभ (दन
१०, पि ८५) ।

अलोह देखो अलोभ (कप्य) ।

अल्ल न [दे] दिन, दिवस (दे १, १) ।

अल्ल देखो अह (हे १, ८३) ।

अल्ल अक [नम्] नमना, नीचे झुगना ।
श्रोअन्नि (से ६ ४३) ।

अल्लई स्त्री [आइईकी] नता-विशेष आइई-
लता (परण १७) ।

अल्लग देवो अल्लय = आइईय (पम २) ।

अल्लय मय [उम् + दिप्] ऊँगा फँगा ।
अल्लयइ (हे ४, १८४) ।

अल्लय न [दे] १ अन्तर्य, नीचा रंग । २
तेड्ड गण-विशेष (१, ५४) ।

अल्लयिअ वि [अल्लयिअ] ऊँगा फँगा मृगा
(कुमा) ।

अल्लय न [आइईक] आदी, पदग (जी ६) ।
अल्लय न [अल्लय] आगे, नीचे की ओर चक्क
(जी ६) ।

अल्लय वि [दे] कनिना गता (दे १, १३) ।

अल्लय पु [अल्लय] इन नाम का एक
रिच्यता देन मुनि भार अल्लय उल्लय-

अभुक्त्रिय वि [अभ्युक्षित] सिक्त (स ३४०)।

अभुगम पु [अभ्युद्रम] उदय, उन्नति (सूत्र १, १४)।

अभुगय वि [अभ्युद्रत] १ उन्नत । २ उत्पन्न (शाया १, १) । ३ ऊँचा किया हुआ, उठाया हुआ (श्रौप) । ४ चारो तरफ फैला हुआ (चद १८)।

अभुगय वि [अभ्रोद्गत] ऊँचा, जनत (भा १२, ५)।

अभुचय पु [अभ्युचय] समुचय (भास ६५)।

अभुजय वि [अभ्युद्यत] १ उद्यत, उद्यम-युक्त (शाया १, ५) । २ तैयार (शाया १, १, सुपा २२२) । ३ पु एकाकी विहार (धम्म १२ टी) । ४ जिनकल्पिक मुनि (पचव ४)।

अभुट्ट उभ [अभ्युत् + स्था] १ आदर करने के लिए खड़ा होना । २ प्रयत्न करना । ३ निरागे करना । अभुट्टेइ (महा) । वक्र - अभुट्टमाण (स ४१६) । मरु अभुट्टिन्ता (भा) । मरु अभुट्टिन्ताए (ठा २, १) । ४ अभुट्टे वचन (ठा ८)।

अभुट्टण न [अभ्युत्थान] आदर के लिए मड़ा होना (सि १०, ११)।

अभुट्टा देवो अभुट्ट ।

अभुट्टाण देवो अभुट्टण (सम ५१, सुपा ३७६)।

अभुट्टिय वि [अभ्युत्थित] १ सम्मान करने के लिए जो खड़ा हुआ हो (शाया १, ८) । २ उन्नत, तैयार, 'अभुट्टिएसु मेहेसु' (शाया १, १, पडि)।

अभुट्टेत्तु [अभ्युत्थात्] अभ्युत्थान करने-वाला (ठा ५, १)।

अभुणय वि [अभ्युन्नत] १ जनत, ऊँचा (परह १, ४)।

अभुणयत मरु [अभ्युन्नयत्] १ ऊँचा करता हुआ । २ उत्तेजित करता हुआ, 'तीएवि जलति दीपगतिमनुएणअतीए' (गा २६४)।

अभुत्त पन [स्ता] म्यान करना । अभुत्तइ (रि ५, १५) । वक्र अभुत्तत (कुमा)।

अभुत्त अक [प्र + दीप्] १ प्रकाशित होना । २ उत्तेजित होना । अभुत्तइ (हे ४, १५२) । अभुत्तए (कुमा) । प्रयो अभ्युत्तेति (सि ५, ५९)।

अभुत्तिअ वि [प्रदीप्त] १ प्रकाशित । २ उत्तेजित (सि १५, ३८)।

अभुत्थ वि [अभ्युत्थ] उत्पन्न, 'पुव्वभवब्भुत्थसिणेहाभो' (महा)।

अभुत्थ } देखो अभुट्टा । वक्र अभुत्थत
अभुत्था } (सि १२, १८) । सक्क अभुत्थिन्ता (काल)।

अभुदय पु [अभ्युदय] १ उन्नति, उदय (प्रयो २६), 'अभ्युदयभूयब्भुदय लद्धूण नरभव सुदीहइ' (उप ७६८ टी)।

अभुद्धर सक [अभ्युद् + घृ] उद्धार करना । अभुद्धरामि (भवि)।

अभुद्धरण न [अभ्युद्धरण] १ उद्धार (स ५४३) । २ वि उद्धार-कारक (हे ४, ३६४)।

अभुदय देवो अभुणय (शाया १, १)।

अभुवभड वि [अभ्युद्धट] अत्युद्धट, विशेष उदत (भवि)।

अभुय न [अभ्युत्] १ आश्चर्य विस्मय (उप ७६८ टी), २ वि आश्चर्य-... सुगा, ३५) । ३ पु माहित्य ... रसो मे से एक,

'विम्हयकरो अभुवो, अभुयपुव्वो य ...' हरिसविसाउप्यत्ती, लक्खणभो ... नाम' (अरा)।

अभुवगच्छ सक [अभ्युप + गम्] १ स्वीकार करना । २ मान जाना । प्रयो, सक्क अभुवगच्छाविय वि १७३)।

अभुवगच्छावि ... [अभ्युपगमित] स्वीकार कराया हुआ, 'गहि तेहि कुमारेहि सवो मज पाएना अभुवगच्छाविभो विगयमभो चित्ते' (आक पु ३५)।

अभुवगम पु [अभ्युगम] १ स्वीकार, अङ्गीकार (सा ११५, स १७०) । २ तर्क-शास्त्र-प्रसिद्ध सिद्धान्त-निर्देश (वह १, सूत्र १, १२)।

अभुवगमना [अभ्युपगमना] स्वीकार, अङ्गीकार (स ५०)।

अभुवगमना [अभ्युपगमना] स्वीकार, अङ्गीकार (स ५०)।

अभुवगमना [अभ्युपगमना] स्वीकार, अङ्गीकार (स ५०)।

अभुवगय वि [अभ्युपगत] १ स्वीकृत (सुर ६, ५८) । २ समीप मे गया हुआ (आचा)।

अभुववण वि [अभ्युपपन्न] अनुग्रह-प्राप्त, अनुगृहीत (नाट, पि १६३, २७६)।

अभुववत्ति स्त्री [अभ्युपपत्ति] अनुग्रह, मेहरवानी (अभि १०४)।

अभुवे सक [अभ्युप + इ] स्वीकार करना । अभुवेजामि (शाया १, १६ टी, पत्र २-५)।

अभो देखो अब्भो (पड्)।

अभोक्त्रिय वि [अभ्युक्षित] सिक्त, सीचा हुआ (सुर ६, १६१)।

अभोज वि [अभोव्य] भोजन के अयोग्य (पिड १६०)।

अभोय (अप) देखो आभोग (भवि)।

अभोवगमिय वि [आभ्युपगमिक] स्वेच्छा से स्वीकृत । १ स्त्री [१] स्वेच्छा से स्वीकृत तपश्चर्यादि की वेदना (ठा ४, ३)।

अचिहड देखो अचिभड । अचिहडइ (पड्)।

अहुत्त देखो अब्भुत्त अहुत्तइ (पड्)।

अभग्ग वि [अभग्ग] १ अखरिडत, अहुत्तित (पडि) । २ इस नाम का एक चोर (विपा १, १)।

अभग्ग वि [अभग्ग] १ अक्ति नहीं करनेवाला (सुमा) । २ न ... अभाव (नव ७)।

अभग्ग पु [अर्थ] उपवास (शास्त्र, पडि, सुपा ३१७) । १ द्विय वि [अर्थ] उपोषित, जिसने उपवास किया हो वह (पंचव २)।

अभय न [अभय] १ भय का अभाव, वैयं (गय) । २ जीवित, मरण का अभाव (सूत्र १, ६) । ३ वि भय-रहित, निर्भीक (आचा)।

अभय पु राजा श्रेणिक का एक विख्यात पुत्र और मन्त्री, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु १, शाया १, १) । 'कुमार पु [अभय] देखो अनन्तरोक्त अर्थ (पडि)।

अभय वि [अभय] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । 'दान न [दान] जीवित-दान (परह २, ४) । 'देव पु [देव] कईएक विख्यात जेनाउयं और ग्रन्थकारो का नाम (सुणि १, १४, ती ४०, सार्ध ७३) । 'प्रदान न [प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । 'वत्त न [वत्त] निर्मयता।

अभय वि [अभय] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । 'दान न [दान] जीवित-दान (परह २, ४) । 'देव पु [देव] कईएक विख्यात जेनाउयं और ग्रन्थकारो का नाम (सुणि १, १४, ती ४०, सार्ध ७३) । 'प्रदान न [प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । 'वत्त न [वत्त] निर्मयता।

अभय वि [अभय] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । 'दान न [दान] जीवित-दान (परह २, ४) । 'देव पु [देव] कईएक विख्यात जेनाउयं और ग्रन्थकारो का नाम (सुणि १, १४, ती ४०, सार्ध ७३) । 'प्रदान न [प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । 'वत्त न [वत्त] निर्मयता।

अभय वि [अभय] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । 'दान न [दान] जीवित-दान (परह २, ४) । 'देव पु [देव] कईएक विख्यात जेनाउयं और ग्रन्थकारो का नाम (सुणि १, १४, ती ४०, सार्ध ७३) । 'प्रदान न [प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । 'वत्त न [वत्त] निर्मयता।

अभय वि [अभय] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । 'दान न [दान] जीवित-दान (परह २, ४) । 'देव पु [देव] कईएक विख्यात जेनाउयं और ग्रन्थकारो का नाम (सुणि १, १४, ती ४०, सार्ध ७३) । 'प्रदान न [प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । 'वत्त न [वत्त] निर्मयता।

अभय वि [अभय] भय-विनाशक, जीवित-दाता (पडि) । 'दान न [दान] जीवित-दान (परह २, ४) । 'देव पु [देव] कईएक विख्यात जेनाउयं और ग्रन्थकारो का नाम (सुणि १, १४, ती ४०, सार्ध ७३) । 'प्रदान न [प्रदान] जीवित का दान (सूत्र १, ६) । 'वत्त न [वत्त] निर्मयता।

अवंग पु [दे] कटाक्ष (दे १, १५) ।
 अवगु } वि [दे अपावृत्] नही ढका
 अवगुय } हुमा, खुला (श्रीप, परह २, ४) ।
 अवगुण सक [दे] खोलना । अवगुणेज्जा
 (भाचा २, २, २, ४) ।
 अवचिअ वि [अवाञ्छित] अधोमुख, अधाड-
 मुख (वज्जा १०) ।
 अवचिअ वि [अवञ्छित] नही ठगा हुआ
 (वज्जा १०) ।
 अवभ वि [अवन्ध्य] सफल, अचूक (सुपा
 ३२५) । 'पवाय न [प्रवाद] ग्यारहवा
 पूर्व, जैन ग्रन्थाश-विशेष (सम २६) ।
 अवतर वि [अवान्तर] भीतरी, बीच का
 (भावम) ।
 अवति पु [अवन्ति] भगवान् आदिनाय का
 एक पुत्र (ती १४) ।
 अवति } स्त्री [अवन्ति, न्ती] १ मालव देश ।
 अवती } २ मालव देश की राजधानी, जो
 आजकल राजपूताना में 'उज्जैन' नाम से प्रसिद्ध
 है (महा, सुपा ३६६, भावम) । 'गंगा स्त्री
 [गङ्गा] आजोविक मत में प्रसिद्ध काल-
 विशेष (भग २४, १) । 'वड्डण पु [वर्धन]
 इस नाम का एक राजा (भाव ४) । 'सुकु-
 माल पु [सुकुमाल] एक श्रेष्ठ-पुत्र, जो
 श्रायसुहस्ति आचार्य के पास दीक्षा लेकर
 देव-लोक के नलिनीगुल्म विमान में उत्पन्न
 हुआ है (पडि) । 'सेण पु [पेण] एक राजा
 (श्राक) ।
 अधदिम वि [अवन्ध्य] वन्दन करने के
 अयोग्य, प्रणाम के अयोग्य (दसजू १) ।
 अवकख सक [अव + काङ्क्ष] १ चाहना ।
 २ देखना । अवकखइ (भग) । वड्ड अव-
 कखमाण (शाया १, ६) ।
 अवकत देखो अवकत, 'कुमरोवि सत्यराधो
 उट्टेता सणियमवकतो' (महा) ।
 अवकपप सक [अव + कल्पय] कल्पना
 करना, मान लेना । अवकपपति (सूत्र १, ३,
 ३, ३) ।
 अवकय वि [अपकृत] १ जिसका अपकार
 किया गया हो वह (उव) । २ अपकार,
 अहित (सुपा ६४१) ।
 अवकर सक [अप + कृ] अहित करना ।
 अवकरेंति (सूत्र १, ४, १, २३) ।

अवकरिस पु [अपकर्प] अपकर्प, हास,
 हानि (सम ६०) ।
 अवकलुसिय वि [अपकलुपित] मलिन
 (गड) ।
 अवकस सक [अव + कृप्] त्याग करना ।
 सक अवकसत्ता (चउ १४) ।
 अवकारि वि [अपकारिन्] अहित करने
 वाला (पउम ६, ८५) ।
 अवकिण वि [अवकीर्ण] परित्यक्त (दे १,
 १३०) ।
 अवकिणग } पुं [अपकीर्णक] करकरइ
 अवकिणय } नामक एक जैन महर्षि का पूर्व
 नाम (महा) ।
 अवकिन्ति स्त्री [अपकीर्त्ति] अपयश (दे १,
 ६०) ।
 अवकिडि स्त्री [अपकृत्ति] अपकार, अहित
 (प्राक १२) ।
 अवकीरण न [अवकरण] छोड़ना, त्याग,
 उत्सर्ग (भाव ५) ।
 अवकीरिअ वि [दे अवकीर्ण] विरहित,
 विद्युक्त (दे १, ३८) ।
 अवकीरियव्य वि [अवकरितव्य] त्याग्य,
 छोड़ने लायक (परह १, ५) ।
 अवकूजिय न [अवकूजित] हाथ को ऊँचा-
 नीचा करना (निवू १७) ।
 अवकेसि पु [अवकेशिन्] फल-वन्ध्य वन-
 स्पति (उर २, ८) ।
 अवकोडक देखो अवओडग (परह १, १) ।
 अवकत वि [अयकान्त] १ पीछे हटा हुआ,
 वापस लौटा हुआ (सुपा २६२, उप १३४
 टी, महा) । २ निकट, जघन्य (ठा ६) ।
 अवकत पु [अवकान्त] प्रथम नरक भूमि का
 ग्यारहवाँ नरकेन्द्रक—नरक-स्थान विशेष
 (दिवेन्द्र ५) ।
 अवकति स्त्री [अपकान्ति] १ अपसरण ।
 २ निर्गमन (शाया १, ८) ।
 अवकति स्त्री [अवकान्ति] गमन, गति
 (भाचा) ।
 अवकम अक [अप + क्रम्] १ पीछे
 हटना । २ बाहर निकलना । अवकमइ (महा,
 कप्प) । वड्ड अवकममाण (विपा १, ६) ।

सक अवकमइत्ता, अवकम्म (कप्प, वव
 १) ।
 अवकम सक [अव + क्रम्] जाना । अवक-
 मइ (भग) । सक अवकमित्ता (भग) ।
 अवकमण न [अपकमण] १ बाहर निकलना
 (ठा ५, २) । २ पलायन, भागना, 'निग्गमण-
 मवकमण निस्सरण पलायण च एण्ह' (वव
 १०) । ३ पीछे हटना (शाया १, १) ।
 अवकमण न [अपकमण] अवतरण, 'उत्त-
 रावकमण' (भग ६, ३३) ।
 अवकय पु [अवकय] भाडा, भाटि (बृह १) ।
 अवकय वि [अपकृत] जिसका अहित किया
 गया हो वह (चड) ।
 अवकरस पु [दे] दाह, मद्य (दे १, ४६,
 पात्र) ।
 अवकरिस } पु [अपकर्प] हानि, अपचय
 अवक्कास } (विसे १७६६, भग १२, ५) ।
 अवक्कास पु [अवकर्प] ऊपर देखो (भग १२,
 ५) ।
 अवक्कास पु [अप्रकाश] अन्धकार, अंधेरा
 (भग १२, ५) ।
 अवक्कोस पु [अवक्कोश] मान, अहंकार (सम
 ७१) ।
 अवकइ सक [इश्] देखना । अवकखइ
 (पड्) । अवकखए (भवि) । वड्ड अव-
 कखत (कुमा) ।
 अवकखइ पु [अवस्करन्द] १ शिबिर, छावनी,
 सैन्य का पडाव । २ नगर का रिपु-सैन्य द्वारा
 वेष्टन, घेरा (हे २, ४, स ४१२) ।
 अवकखर पु [अवस्कर] पुरीष, विद्या (प्राक
 २१) ।
 अवकखरण न [अपचारण] १ निर्मल्लंता,
 कठोर वचन । २ सहायुक्ति का अभाव (परह
 १, २) ।
 अवकखेव पु [अवक्षेप] विक्त, बाधा (विपा
 १, ६) ।
 अवकखेवण न [अवक्षेपण] १ बाधा, अन्त-
 राय । २ क्रिया-विशेष, नीचे जाना । (भावम,
 विसे २४६२) ।
 अवखेर सक [दे] १ खिन्न करना । २ तिर-
 स्कार करना । अवखेरइ (भवि) । वड्ड अव-
 खेरत (भवि) ।

अभिगमण—अभिगिन्वागड

पाइअसदमहणवो

४ ज्ञान, निश्चय (पव १४६) । ५ सम्य-
क्य का एक भेद (ठा २, १) । ६ प्रवेश
(सि ८, ३३) ।

अभिगमण न [अभिगमन्] ऊपर देखो
(स्वप्न १६, शाया १, १२) ।

अभिगमि वि [अभिगमिन्] १ आदर
करने वाला । २ उपदेशक । ३ निश्चय-कारक ।

४ प्रवेश करने वाला ५ स्वीकार करने
वाला, प्राप्त करने वाला (पएण ३४) ।

अभिगम्य वि [अभिगत] १ प्राप्त । २
मछन । ३ उपदिष्ट । ४ प्रविष्ट (बृह १) ।

५ ज्ञात, निश्चित (शाया १, १) ।

अभिगहिय न [अभिग्रहिक] मिथ्यात्व-
लिये (वस्म ४, ५१) ।

अभिगिन्वागड [अभि + गृध्] अति
गाम्यता, गाम्यता, गाम्यता । वृह अभि-
गिन्वागड (सू २, २) ।

अभिगिण्ह सक [अभि + ग्रह्] ग्रहण
अभिगिन्द् करना, स्वीकारना । अभि-
गिण्ह (कप्य) । सक अभिगिण्हिता,
अभिगिण्ह (वि ५८२, ठा २, १) ।

अभिगह पु [अभिग्रह] १ प्रतिज्ञा, नियम ।
(श्लो ३) । २ जैन साधुओं का आचार-
नियम (बृह १) । ३ प्रत्याख्यान, (नियम-
निशेय) वा एक भेद (शाव ६) । ४ कदा-
चन हठ (ठा २, १) । ५ एक प्रकार का
शास्त्रिक नियम (वव १) ।

अभिगहणी स्त्री [अभिग्रहणी] माया का

दोषा ली थी (अत ३) । २ इस नाम का
एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ६५) । ३
मुहूर्त-विशेष । (सम ५१) ।

अभिजण देखो अभिअण (स्वप्न २६) ।

अभिजस न [अभियरास्] इस नाम का
एक जैन साधुओं का कुल (एक आचार्य की
सतति) (कप्य) ।

अभिजाइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता,
खानदानी (उत्त ११) ।

अभिजाण सक [अभि + ज्ञा] जानना ।
वृह अभिजाणमाण (आचा) ।

अभिजान पु [अभिजात] पक्ष का ग्यारहवाँ
दिन (सुज १०, १४) ।

अभिजाय वि [अभिजात] १ उत्पन्न, 'अभि-
जायसड्डो' (उत्त १४) । २ कुलीन (राज) ।

अभिजुंज सक [अभि + युज्] १ मन्त्र-
तन्त्रादि से वश करना । २ कोई कार्य में
लगाना । ३ आलिंगन करना । ४ स्मरण
कराना, याद दिलाना । ५ अहिजाज्य,
अभिजुजियाण, अभिजुंजिता (सम २,
५, सूत्र १, ५, २, आचा, भाग ३, ५) ।

अभिजुत्त वि [अभियुक्त] १ व्रत-नियम में
जिसने हूषण न लगाया हो वह (शाया १,
१४) । २ जानकार, परिणत (एदि) ।

३ दुर्यन से घिरा हुआ (वेणी १२०) ।

अभिजम्मा स्त्री [अभिध्या] लोभ, लोलुपता,
आसक्ति (सम ७१, पएह १, ५) ।

अभिणदइ (स १६३) । वृह अभिणदंत
(श्लो, शाया १, १, पउम ५, १३०) ।
कवक अभिणदिज्जमाण (ठा ६, शाया
१, १) ।

अभिणदिय वि [अभिनन्दित] जिसका
अभिनन्दन किया गया हो वह (सुपा ३१०) ।

अभिणदण न [अभिनन्दन] १ अभिनन्दन ।

२ पु वर्तमान अवसर्पणीकाल के चतुर्थ
जिनदेव (सम ४३) । ३ लोकोत्तर श्रावणमास ।
(सुज १०) ।

अभिणय पु [अभिनय] शारीरिक चेष्टा के
द्वारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नाटक-
क्रिया (ठा ४, ४) ।

अभिणय वि [अभिनय] नूतन, नया (जीव
३) ।

अभिणिवखत वि [अभिनिष्क्रान्त]
दोषित, प्रव्रजित (स २७८) ।

अभिणिरिण्ह सक [अभिन + ग्रह्]
रोकना, अटकना । सक अभिणिरिण्ह
(वि ३३१, ५६१) ।

अभिणिचरिण्ण स्त्री [अभिनिचारिका]
वि ३ के लिए गनिनेवदेव (वव ४) ।

अभिणियया स्त्री [अभिनिप्रजा] प्रलग-
अलग रही हुई प्रजा (वव ६) ।

अभिणियुज्ज सक [अभिति + युज्]
जानना, इन्द्रिय आदि द्वारा निश्चित रूप
ज्ञान करना । अभिणियुज्जए (विसे ८१) ।

अवक्षीय वि [अपत्थीय] सतानीय, सतान-
सवन्धी (डा ६) ।
अवच्छुण्ण न [दे] क्रोध से कहा जाता
मार्मिक वचन (दे १, ३६) ।
अवच्छेय पु [अवच्छेद] विभाग, अश (डा
३, ३) ।
अवच्छेद वि [अपच्छन्दस्क] छन्द के लक्षण
से रहित, छन्दोदोष-दुष्ट (पिंग) ।
अवजस पु [अपयशस्] अपकीर्ति (उप पृ
१८७) ।
अवजाण नक [अप+जा] ; अपलाप करना,
'वानस्म मद्य वीय ज च वड अवजाणई
भुजो' (सूत्र १, ४, १, २६) ।
अवजाय पु [अपजात] पिता की अपेक्षा
हीन वेभववाला पुत्र (डा ४ १) ।
अवजिठभ पुं [अपजिह्व] दूनरी नरक-
पृथिवी का आठवा नरवेन्द्रक—नरकस्थान
विशेष (देवेन्द्र ६) ।
अवजीव वि [अपजीव] जीवरहित मृत,
अचेतन (गड्ड) ।
अवजुय वि [अवयुत] पृथग्भूत, भिन्न
(वव ७) ।
अवज्ज न [अवद्य] ? पाप (परह २, ४) ।
२ वि निन्दनीय (सूत्र १, १, २) ।
अवज्जस सक [गम्] जाना, गमन करना ।
अवजसइ (हे ४, १६२) । वक्र अवज्जसत
(कुमा) ।
अवज्जा स्त्री [अवजा] अनादर (न ६०४) ।
अवज्ज वि [अवध्य] मारने के अयोग्य
(राया १, १६) ।
अवज्ज सक [दृश] देखना (सक्ति ३६) ।
अवज्जस न [दे] ? कटी, कमर । २ वि
कठिन (दे १, ५६) ।
अवज्जमा स्त्री [अवज्या] ? अयोध्या नगरी
(इक) । २ विदेह वर्ष की एक नगरी (डा
२, ३) ।
अवज्जमा न [अपध्यान] बुरा चिन्तन,
दुर्घ्यान (सुपा ५४६, उप ४६६, सम ५०,
विसे ३०१३) ।
अवज्जमा पुन [अपध्यान] दुर्घ्यान, 'वड-
अवज्जमा' } विवहो अवज्जमा' (श्रावक
२८६, पचा १, २३, सबोध ४५) ।

अवज्जमाय वि [उ,पध्यात] ? दुर्घ्यान का
विषय । २ अवज्ञात, तिरस्कृत (राया १, १४) ।
अवज्जमाय, अप) देखो उवज्जमाय (दे १, ३७) ।
अवट्ट सक [अप + वृत्] घुमाना, फिराना,
'अवट्ट अवट्ट ति वाहरते कएणहारे रज्जुवरि-
वत्तएण्णएसु निजामएसु अयडम्मि चैव गिरि-
सिहरनिवडिय पिव विवन्त जाणवत्त' (स
३५५) ।
अवट्ट अक [अप + वृत्] पीछे हटना । अव-
ट्टइ (प्राक् ७२) ।
अवट्टा स्त्री [आवर्त्ता] राजमार्ग से बाहर की
जगह (उप ६६१) ।
अवट्टभ पु [अवट्टम्भ] अवलम्बन, आश्रय
(पउम २६, २०, स ३३१) ।
अवट्टभ पु [अवट्टम्भ] दृढता, हिम्मत (धर्मवि
१४०) ।
अवट्टभ देखो अवठभ । कर्म अवट्टभति (स
७४९) ।
अवट्टभण } न [अवट्टम्भन] अवलम्बन,
अवट्टहण } सहारा (स ७४६ टी, ७४६) ।
अवट्टव वि [अवट्टव] रोकना हुआ (द्रव्य
२७) ।
अवट्टव वि [अवट्टव] ? अवलम्बित । २
श्राकन्त, 'अवट्टवा महाविसाएण' (स ५८४) ।
अवट्टव सक [अव + रत्तम्भ] अवलम्बन
करना, सहारा लेना । सक अवट्टविअ (विक्र
६४) ।
अवट्टाण न [अवस्थान] ? अवस्थिति,
अवस्था । २ व्यवस्था (वृह ५) ।
अवट्टिअ वि [अवस्थित] ? अवगाहन करके
स्थित (सूत्र १, ६, ११) । २ कर्म-बन्ध विशेष,
प्रथम समय में जितनी कर्म-प्रकृतियों का बन्ध
हो द्वितीय आदि समयों में भी उतनी ही
प्रकृतियों का जो बन्ध हो वह (पच ५, १२) ।
अवट्टिअ वि [अवस्थित] ? स्थिर रहनेवाला
(भग) । २ नित्य, शाश्वत (डा ३, ३) । ३ जो
बढता-घटता न हो (जीव ३) ।
अवट्टिइ स्त्री [अवस्थिति] अवस्थान (डा ३,
४, विसे ७५८) ।
अवठभ सक [अव + रत्तम्भ] अवलम्बन
करना । सक

'घाएण मग्गो, सहेण मई, चोजेण
वाह्वहुयावि ।
अवठभिकुण धणुह वाहेणवि मुक्किया पाणा'
(वज्जा ४६) ।
अवठभ पुं [दे] ताम्बूल, पान (दे १, ३६) ।
अवड पु [अवट] कूप, कुंआ (गड्ड) ।
अवड } पु [दे] ? कूप, कुआ । २ आराम,
अवडअ } वगीचा (दे १, ५३) ।
अवडअ पु [दे] ? चञ्चा, घास-फूस का पुतला,
तृण-पुरुष (दे १, २०) ।
अवडक पु [अवटक] प्रसिद्धि, ख्याति, 'जण-
कयावडकेए निग्घरासम्मो एणम' (महा) ।
अवडक्खिअ वि [दे] कूप आदि में गिरकर
मरा हुआ, जिसने आत्म-हत्या की हो वह (दे
१, ४७) ।
अवडाह सक [उत् + क्रुश] ऊंचे स्वर से
रुदन करना । अवडाहेमि (दे १, ४७) ।
अवडाहिअ न [दे] ? ऊंचे स्वर से रोवन
(दे १, ४७) । २ वि उत्कृष्ट (पड) ।
अवडिअ वि [दे] खिन्न, परिश्रान्त (दे १,
२१) ।
अण्डु पु [अवट्ट] कृकाटिका, घटी या घाटी,
कण्ठमार्ग (पात्र) ।
अवडुअ पु [दे] उलूखल, उलूखल (दे १, २६) ।
अवडुल्लिअ वि [दे] कूप आदि में गिरा हुआ
(पड) ।
अवडुवा स्त्री [दे] कृकाटिका, घटी, गर्दन का
ऊंचा हिस्सा (भग १५, पत्र ६७६) ।
अवडुव वि [अपार्ध] ? आधा (सुज्ज १०) ।
२ आधा दिन, 'अवडुव पच्चक्खाइ' (पडि, भग
१६, ३) । ३ आधे से कम (भग ७, १, नव
४१) । ४ 'क्खेत्त न [°देव] ? नक्षत्र-विशेष
(चद १०) । २ मुहूर्त-विशेष (डा ६) ।
अवण पु [दे] ? पानी का प्रवाह । २ धर
का फलहक (दे १, ५५) ।
अवण न [अवन] ? गमन । २ अनुभव
(एदि, विसे ८३) ।
अवणण देखो अवणयण (पिंड ४७३) ।
अवणण वि [अवनण] ? संबद्ध, जोड़ा हुआ
(सुर २, ७) । २ आच्छादित (भग) ।
अवणम अक [अव + नम्] नीचे नमना ।
वक्र अवणमत (राय) ।

अवहार } देखो अवदार (गाया १, २,
अवहार } प्राह) ।
अवदाहणा स्त्री देखो अवदहण (विपा १,
१) ।
अवदुस न [दे] उल्लूखल आदि घर का
सामान्य उपकरण, गुजराती मे जिसको 'राच-
रचिलु' कहते हैं (दे १, ३०) ।
अवद्धस पु [अवध्वस] विनाश (ठा ४, ४) ।
अवधसि वि [अपध्वसिन्] विनाशकारक
(उत्त ४, ७) ।
अवधार सक [अव + धारय्] निश्चय
करना । कृ अवधारियञ्च (पचा ३) ।
अवधारण न [अवधारण] निश्चय, निर्णय
(आ ३०) ।
अवधारणा स्त्री [अवधारणा] दीर्घकाल तक
याद रखने की शक्ति (सम्मत्त ११८) ।
अवधारिय वि [अवधारित] निश्चित, निर्णयित
(वसु) ।
अवधारियञ्च देखो अवधार ।
अवधाव सक [अप + धाच्] पीछे दौडना ।
अवधावइ (सण) । वहु अवधावत (स
२३२) ।
अवधिका स्त्री [दे] उपदेहिका, दीमक (पणह
१, १) ।
अवधीरिय वि [अवधीरित] तिरस्कृत, अप-
मानित (वृह १, ४) ।
अवधुण } सक [अव + धू] १ परित्याग
अवधूण } करना । २ अवज्ञा करना । सक
अवधूणिअ, अवधूणिअ (माल २३२, वेणी
११०) ।
अवधूय वि [अवधूत] १ अवज्ञात, तिरस्कृत
(शोध १८ भा टी) । २ विक्षित (आव ४) ।
अवनिहय पु [अपनिद्रक] उजागर, निद्रा
का अभाव (सुर ६, ८३) ।
अवन्न देखो अवणण = अवर्ण (भग, उव,
शोध ३५१) ।
अवन्ना देखो अवणणा (शोध ३८२ भा, सुर
१६, १३१, सुपा ३७२) ।
अवपगुण } सक [दे] खोलना । अवपगुणे
अवपगुर } (सूत्र १, २, २, १३) । अव-
पगुरे (दस ५, १, १८) ।
अवपक्का स्त्री [अवपाक्या] तापिका, तवी,
छोटा तवा (गाया १, १ टी—पत्र ४३) ।

अवपुट्ट वि [अवपुष्ट] जिसका दाशं किया
गया हो वह,
'जीए ससिकतमणिमदिराइ
निसि ससिकरावपुट्टाइ ।
वियलियवाहजलाईं रोयतिव,
तरणितवियाह' (सुपा ३) ।
अवपुसिय वि [दे] सघटित, संयुक्त (दे १,
३६) ।
अवपूर सक [अव + पूरय्] पूर्ण करना ।
अवपूरति (स ७१२) ।
अवपेक्ख सक [अवप्र + ईक्ष्] अवलोकन
करना । अवपेक्खइ (उत्त ६, १३) ।
अवप्पओग पु [अपप्रयोग] उलटा प्रयोग,
विरुद्ध श्रौपाद्यो का मिश्रण (वृह १) ।
अवप्फार पु [अवस्फार] विस्तार, फेलाव,
'ता किमिणिणा अहोपुरिसियावप्फारपाएण'
(स २८८) ।
अववंच पु [अववन्ध] बन्ध, बन्धन (गउड) ।
अववद्ध वि [अववद्ध] बंधा हुआ, नियन्त्रित
(धर्म ३) ।
अववाण वि [अपवाण] बाणरहित
(गउड) ।
अववुज्झ सक [अव + बुध्] १ जानना ।
२ समझना, 'जत्थ त मुज्झती राय, पेक्कथ
नाववुज्झने' (उत्त १८, १३) । वहु अव-
वुज्झमाण (स ८५) । सक अववुज्झेऊण
(स १६७) ।
अववोह पु [अववोध] १ ज्ञान, बोध (सुपा
१७) । २ विकास (गउड) । ३ जागरण
(धर्म २) । ४ स्मरण, याद (आचा) ।
अववोहय वि [अववोधक] अवबोध-कारक,
'भवियकमलाववोहय, मोहमहातिमिरपसरभर-
सूर' (काल) ।
अववोहि पु [अववोधि] १ ज्ञान । २ निश्चय,
निर्णय (आहू १, विसे ११५४) ।
अवभास अक [अव + भास्] चमकना,
प्रकाशित होना ।
अवभास पु [अवभास] प्रकाश (सुज ३) ।
अवभास पु [अवभास] ज्ञान (धर्मसं
१३३३) ।
अवभासण वि [अवभासन] प्रकाश-कर्ता
(सुख १, ४०) ।

अवभासय वि [अवभासक] प्रकाशक
(विसे ३१७, २०००) ।
अवभासि वि [अवभासिन्] देदीप्यमान,
प्रकाशने वाला (गउड) ।
अवभासिय वि [अवभासित] प्रकाशित
(विसे) ।
अवभासिय वि [अपभासित] आकृष्ट,
अभिशप्त (वव १) ।
अवम देखो ओम (आचा) ।
अवमगग पु [अपमार्ग] कुमार्ग, खराब
रास्ता (कुमा) ।
अवमगग पु [अपामार्ग] वृक्ष-विशेष, चिचडा,
लटजीरा (दे १, ८) ।
अवमच्छु पु [अपमृद्यु] अकाल मृत्यु, बिना
मौत मरण (दे ६, ३, कुमा) ।
अवमज्ज सक [अव + मृज्] पोछना,
भाडना, साफ करना । सक अवमज्जिऊण
(स ३४८) ।
अवमणण सक [अव + मन्] तिरस्कार
करना । अवमणणति (उवर १२२) ।
अवमह पु [अवमर्द] मर्दन, विनाश (पणह
१, २) ।
अवमहग वि [अवमर्दक] मर्दन करने वाला
(गाया १, १६) ।
अवमन्न सक [अव + मन्] अवज्ञा करना,
निरादर करना । अवमन्नइ (महा) । वहु
अवमन्नत (सूत्र १, ३, ४) सक अवमन्नि
ऊण (महा) ।
अवमन्निय } वि [अवमत] अवज्ञात, अव-
अवमय } गणित (सुर १६, १२७, महा,
उव) ।
अवमाण पु [अपमान] तिरस्कार (सुर १,
२३५) ।
अवमाण पुन [अवमान] १ अवज्ञा, तिर-
स्कार । २ परिमाण (ठा ४, १) ।
अवमाण सक [अव + मानय्] अवगणना
करना । अवमाणइ (भवि) ।
अवमाणण न [अवमानन] अनादर, अवज्ञा
(पणह १, ५, श्रौप) ।
अवमाणण न [अपमानन] तिरस्कार, अप-
मान (स १०) ।

अभिसेअ } पुं [अभिपेक] १ राजा, आचार्य
अभिसेग } आदिपद पर आरुढ करना (सथा,
महा) । २ स्नान-महोत्सव, 'जिष्णाभिसेगे'
(सुपा ५०) । ३ स्नान (श्रौप, स ३२) । ४
जहा पर अभिपेक किया जाता है वह स्थान
(भग) । ५ शुक्र शोणित का संयोग, 'इह खलु
अतस्ताए तेहि तेहि कुलेहि अभिपेएण अभि
सभूया' (आचा १, ६, १) । ६ वि आचार्य
आदिपद के योग्य (बृह ३) । ७ अभिषिक्त
(निचू १५) ।

अभिसेगा स्त्री [अभिपेका] १ सान्वी, संन्या-
यिनी (निचू १५) । २ साध्वियों की मुखिया,
प्रवर्तिनी (धर्म ३, निचू ६) ।

अभिसेजा स्त्री [अभिश्यया] देखो अभि-
णिसज्जा (वव १) । २ भिन्न स्थान (विसे
३४६१) ।

अभिसेवण न [अभिपेवण] पूजा, सेवा,
भक्ति (पउम १४, ४६) ।

अभिसेवि वि [अभिपेविन्] सेवा कर्ता (सूत्र
२, ६, ४४) ।

अभिसेग पु [अभिष्वङ्ग] आसक्ति (विसे
२६६५) ।

अभिहट्ट अ [अभिहृत्य] बलात्कार करके,
जरदस्ती करके (आचा, पि ५७७) ।

अभिहट वि [अभिहृत] १ सामने लाया
हुआ (पचा १३) । २ जैन साधुओं की शिक्षा
का एक दोष (ठा ३, ४) ।

अभिहण सक [अभि + हन्] मारना, हिंसा
करना (पि ४६६) । वक्र. अभिहणमाण
(ज ३) ।

अभिहणण न [अभिहनन] अभिघात, हिंसा
(भग ८, ७) ।

अभिहय नि [अभिहत] मारा हुआ, आहत
(पटि) ।

अभिहा स्त्री [अभिधा] नाम, आख्या (सण) ।

अभिहाण न [अभिधान] १ नाम, आख्या
(हुमा) । २ वाचन, शब्द (वव ६) । ३
कपन, उक्ति (विसे) ।

अभिहाण न [अभिधान] १ उच्चारण
(मूपति १३८) । २ कपन, उक्ति (धम्म
११११) । ३ संज्ञापन (वेद्य ७४) ।

अभिहित नि [अभिहित] कपित, उक्त
(पचा) ।

अभिहेअ वि [अभिधेय] वाच्य, पदार्थ
(विसे ८४१) ।

अभीइ स्त्री [अभिजिन्] १ नक्षत्र-
अभीजि } विशेष (सम ८, १५) । २ पु. एक
राजकुमार (भग १३, ६) । ३ राजा श्रेणिक
का एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा ली थी (अनु) ।

अभीरु वि [अभीरु] १ निडर, निर्भीक
(आचा) । २ स्त्री मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छना
(ठा ७) ।

अभेज्झा देखो अभिज्झा (परह १, ३) ।

अभोज्ज वि [अभोज्य] भोजन के अयोग्य
(णाय १, १६) । °घर न [°गृह] भिक्षा
के लिए अयोग्य घर, घोबी आदि नीच जाति
का घर (बृह १) ।

अम सक [अम्] १ जाना । २ आवाज
करना । ३ खाना । ४ पीडना । ५ अक
रोगी होना, 'अम गच्चाईसु' (विसे ३४५३),
'अम रोगे वा' (विसे ३४५४) । अमइ (विसे
३४५३) ।

अमग्ग पु [अमार्ग] १ कुमार, खराब रास्ता
(उव) । २ मिथ्यात्व, कपाय आदि हेय पदार्थ,
'अमग्ग परियाणामि मग्ग उपसपज्जामि'
(आव ४) । ३ कुमत, कुदर्शन (दस) ।

अमग्घाय पु [अमाघात] १ द्रव्य का अ-
हरण । २ मारिनिवारण, अमय घोषणा (पचा
६) ।

अमच्च पुं [अमात्य] मन्त्री, प्रवान (श्रौप, सुर
४, १०४) ।

अमच्च पु [अमत्य] देव, देवता (कुमा) ।

अमज्झ वि [अमध्य] १ मध्य रहित, अखण्ड
(ठा ३, २) । २ परमाणु (भग २०, ६) ।

अमण न [अमन] १ ज्ञान, निर्णय (ठा ३,
४) । २ अन्त, अवसान (विसे ३४५३) ।

अमण } वि [अमनस्क] १ अप्रीतिकर,
अमणकल } अभीष्ट (ठा ३, ३) । ३ मनरहित
(आव ४, सूत्र २, ४, २) ।

अमणाम वि [अमनआप] अनिष्ट, अमनोहर
(सम १४६, विपा १, १) ।

अमणाम वि [अमनोम] ऊपर देखो (भग,
विपा १, १) ।

अमणाम वि [अवनाम] पीडा-कारक, दुःखो-
त्पादक (सूत्र २, १) ।

अमणुरस पु [अमनुष्य] १ मनुष्य भिन्न देव
आदि (णदि) । २ नपुंसक (निचू १) ।

अमत्त न [अमत्र] भाजन, पात्र (सूत्र १, ६) ।

अमम वि [अमम] १ ममता-रहित, नि स्पृह
(परह २, ५, सुपा ५००) । २ पु आगामी
काल में होने वाले एक जिनदेव का नाम
(सम १५३) । ३ युग्म रूप से होने वाले
मनुष्यों की एक जाति (ज ४) । दिन के
२५ वां मुहुर्त का नाम (चद १०) । °त्त वि
[°त्व] नि स्पृह, ममता-रहित (पचव ४) ।

अमय वि [अमय] विकार-रहित,
'अमओ य होइ जीवो, कारणविरहा
जहेव आगास ।

समय च होअनिच्च, मिम्मयवडततुमाईय'
(विसे) ।

अमय न [अमृत] १ अमृत, सुधा (प्रासू
६६) । २ क्षीर समुद्र का पानी (राय) । ३
पु मोक्ष, मुक्ति (सम्म १६७, प्रामा) । ४
वि नहीं मरा हुआ, जीवित, 'अमओ ह नय
विमुञ्चामि' (पउम ३३, ८२) । °कर पु [°कर]
चन्द्र, चन्द्रमा (उग ७६८ टी) । °किरण पुं
[°किरण] चन्द्र (सुपा ३७७) । °कुड पुं
[°कुण्ड] चन्द्र, चाँद (आ २७) । °घोस पुं
[°घोष] एक राजा का नाम (सथा) । °फल
न [°फल] अमृतोपम फल (णाय १, ६) ।

°मइय—°मय वि [°मय] अमृत-पूर्ण (कुमा,
सुर ३, १२१, २३३) । °मऊह पु [°मयूख]
चन्द्र (मे ६८) । °वल्लरि, °वल्लरी स्त्री
[°वल्लरि, °री] अमृतलता, वल्ली-विशेष,
गुहूची । °वल्लि, °वल्ली स्त्री [°वल्लि,
°ल्ली] वल्ली-विशेष, गुहूची (आ २०, पव
४) । °वास पु [°वर्ष] सुधा-वृष्टि (आचा) ।
देखो अभिय = अमृत ।

अमय पु [दि] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे १, १५) ।
२ असुर, दैत्य (पड) ।

अमयघडिअ पु [दि. अमृतघटित] चन्द्रमा,
चाँद (कुप्र २१) ।

अमयणिग्गम पु [दि. अमृतनिर्गम] १
चन्द्र, चन्द्रमा (दे १, १५) ।

अमर वि [आमर] दिव्य, देव-सम्बन्धी, 'अमरा
आउहमेया' (पउम ६१, ४६) ।

अवर स [अपर] १ पिछला काल या देश (महा) । २ पिछले काल या देश में रहा हुआ, पाश्चात्य (सम १३, महा) । ३ पश्चिम दिशा में स्थित, 'अवरद्वारेण' (स ६४६) । °कका स्त्री [°कका] १ घातकी-खड के भरतमेज की एक राजधानी । २ इस नाम के 'जातधर्म-कथा' सूत्र का एक अध्येयन (आया १, १६) । °णह पु [°णह] १ दिन का अन्तिम प्रहर (ठा ४, २) । २ दिन का उत्तरी भाग (आचू १, गा २६६, प्रासू ५४) । °दाहिण पु [°दक्षिण] १ नैऋत्य कोण । २ वि नैऋत्य कोण में स्थित (पचा २) । °दाहिणा स्त्री [°दक्षिणा] पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा, नैऋत कोण (वव ७) । °फाणु स्त्री [°पाणि] एडी, झड़ी का पिछला भाग (वव ८) । °राय पु [°रात्र] देखो अवरत्त=अपररात्र (आचा) । °विदेह पु [°विदेह] महाविदेह नामक वर्ष का पश्चिम भाग (ठा २, ३, पडि) । °विदेहकूड न [°विदेहकूट] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष (ज ४) । देखो अपर ।

अवर स [अवर] ऊपर देखो (महा, आया १, १६, वव ७, पचा २) ।

अवरसुह वि [अपराद्धमुख] १ समुह । २ तत्पर (पि २६६) ।

अवरच्छ देखो अपरच्छ (परह १, ३) ।

अवरज्ज पु [दे] १ गत दिन । २ आगामी दिन । ३ प्रभात, सुबह (दे १, ५६) ।

अवरज्ज अक [अप + राध्] १ अपराध करना, गुनाह करना । २ नष्ट होना । अवरज्जइ (महा, उव) । वक्क अवरज्जंत (राज) ।

अवरत्त पु [अपररात्र, अवररात्र] रात्रि का पिछला भाग (भग, आया १, १) ।

अवरत्त वि [अपरत्त] १ विरक्त, उदास (उप ५ ३०८) । २ नाराज, नाशुश (मुदा २६७) ।

अवरत्तअ पु [दे] पश्चाताप, अनुताप (दे अवरत्तअ) १, ४५, पात्र) ।

अवरदक्खिणा देखो अवरदाहिणा (पव १०६) ।

अवरद्ध न [अपराद्ध] १ अपराध, गुनाह (सुर २, १२१) । २ वि जिसने अपराध किया हो

वह, अपराधी, 'सगडे दारए मम अतेउरत्ति अवरद्धे' (विपा १, ४, स २८) । ३ विनाशित, नष्ट किया हुआ (आया १, १) ।

अवरद्धिग वि [अपराधिक] १ अपराधी, दोषी । २ पु लूता-स्फोट । ३ सर्पादि-दश (पिड १४) ।

अवरद्धिग पुंस्त्री [अपराधिक] १ सर्व-अवरद्धिय दश । २ फुनसी, छोटा फोडा (शोध ३४१, पिड) ।

अवरा स्त्री [अपरा] विदेहवर्ष की एक नगरी (ठा २, ३) ।

अवरा स्त्री [अपरा] पश्चिम दिशा (पव १०६) । अवराइया देखो अपराइया (पउम २५, १, ज ४, ठा २, ३) ।

अवराइस देखो अण्णाइस (पड्, हे ४, ४१३) ।

अवराजिय देखो अपराइय (इक) । अवराजिया देखो अपराइया (इक) ।

अवराह पु [अपराध] १ अपराध, गुनाह (आव १) । २ अग्निष्ट, बुराई, 'अवराहेसु गुणेषु य निमित्तमेत परो होइ' (प्रासू १२२) ।

अवराह पु [दे] कटी, कमर (दे १, २८) ।

अवराहिय न [अपराधित] १ अपराध, गुनाह, 'जपइ जणो महल्ल कस्सवि अवराहिय जाय' (पउम ६४, २५, स ३२०) । २ अपकार, अग्निष्ट, अहित, 'सिरि चडिआ खति प्फलई, पुगु डालइ

मोडति । तोवि महद्धुम सउणाह, अवराहिउ न करति' (हे ४, ४५५) ।

अवराहिल्ल वि [अपराधिन्] अपराधी (प्राक्क ५०) ।

अवराहुत्त वि [अपराभिमुख] १ पराद्ध-मुख । २ पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किया हुआ (आव ४) ।

अवरि अ [उपरि] ऊपर (दे १, २६, प्राप्र) ।

अवरिक्क वि [दे] अवसररहित, अनवसर (दे १, २०) ।

अवरिगल्लिअ वि [अपरिगलित] पूर्ण, भरपूर (से ११, ८८) ।

अवरिज्ज वि [दे] अद्वितीय, असाधारण (दे १, ३६, षड्) ।

अवरिल्ल वि [उपरि] उत्तरीय वक्क, चादर (हे २, १६६, कुमा, गउड, पात्र) ।

अवरिल्ल वि [अपरीय] पाश्चात्य, पश्चिम दिशा सवन्धी, 'तो ए तुम्हे अवरिल्लं वणसड गच्छे-ज्जाह' (आया १, ६) ।

अवरिहद्धुपुसण न [दे] १ अकीर्ति, अजस । २ असत्य, झूठ । ३ दान (दे १, ६०) ।

अवरुड सक [दे] आलिङ्गन करना । अवरुडइ (दे १११, सुर ३, १८२, भवि) । कर्म अवरुडिज्जइ (दे १, ११) । सक्क अवरुडिज्जण (दे १, ११, स ४२१) ।

अवरुंडण न [दे] आलिङ्गन (भवि, पात्र, अवरुडिअ) दे १, ११) ।

अवरुत्तर पु [अपरोत्तर] १ वायव्य कोण । २ वि वायव्य कोण में स्थित (भग) ।

अवरुत्तरा स्त्री [अपरोत्तरा] वायव्य दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा (वव ७) ।

अवरुद्ध वि [अवरुद्ध] घिरा हुआ (विसे २६७५) ।

अवरुत्तर देखो अवरोत्पर (कुमा, रभा) । अवरुह अक [अव + रुह्] नीचे उतरना । अवरुहेहि (मै १४) ।

अवरुव देखो अपुच्च (प्राक्क ८५) ।

अवरोत्पर वि [परस्पर] आपस में (हे ४, अवरोवर) ४०६, गउड, सुपा २२, सुर ३, ७६, पड्) ।

अवरोह पु [अवरोध] १ अन्त पुर, जनान-खाना (सुपा ६३) । २ अन्त पुर में रहनेवाली स्त्री (विपा १, ४) । ३ नगर को सैन्य से घेरना (निव्व ८) । ४ संक्षेप (विसे ३५५५) । ५ प्रतिबन्ध, 'कह सव्वत्थितावरोहोत्ति' (विसे १७२३) । °जुवइ स्त्री [°युवति] अन्त पुर की स्त्री (पि ३८७) ।

अवरोह पु [अवरोह] उगनेवाला (तृण आदि) (गउड) ।

अवरोह पु [दे] कटि, कमर (दे १, २८) ।

अवलव सक [अव + लम्ब्] १ सहारा लेना, आश्रय लेना । २ लटकना । अवलवइ (कस) । अवलवेइ (महा) । वक्क अवलव-माण (सम्म ५८) । कवक्क अवलवज्जित (पि ३६७) । सक्क अवलवज्जण, अवल-विय (आव ५, आचा २, १, ६) । हेक्क

अमुगत्य वि [अमुत्र] अमुक स्थान मे (सुपा ६०२)।

अमुण वि [अज्ञ] अज्ञान, मूर्ख (बृह १)।

अमुणिय वि [अज्ञात] अविदित (सुर ४, २०)।

अमुणिय वि [अज्ञान] मूर्ख, अज्ञान (परह १, २)।

अमुक्त वि [अमुक्त] अपरित्यक्त (ठा १०)।

अमुक्त वि [अमूर्त्त] रूपरहित, निराकार (सुर १४, ३६)।

अमुदग्ग न [अमुदग्र] १ अतीन्द्रिय अमुयग्ग] मिय्याज्ञान विशेष, जेस देवताओं के पुद्गलरहित शरीर को देखकर जीव का शरीर पुद्गल से निर्मित नहीं है ऐसा निर्णय (ठा ७)।

अमुस वि [अमृष] सच्चा, सत्य, 'अमुमे वरे' (सूय १, १०, १२)।

अमुसा स्त्री [अमृषा] सत्यवचन (सूय १, १०)। वाइ वि [वादिन्] सत्यवादी (कुमा)।

अमुह वि [अमुर] निरुत्तर (वव ६)।

अमुहरि वि [अमुरारिन्] अवाचाल, मित-भाषी (उत्त १)।

अमूढ वि [अमूढ] अमृगध, विचक्षण (शाया १, ६)। गाण न [ज्ञान] सत्य-ज्ञान (भावम)। ऽदिट्ठि स्त्री [दृष्टि] १ तम्यदर्शन (पव ६)। २ अविचलित बुद्धि (उत्त २)। ३ वि अविचलित दृष्टि वाला, गम्यार्हट्टि (गच्छ १)।

अमूस वि [अमृष] सत्यवादी (कुमा)।

अमेज देवा अमिज्ज (भग ११, ११)।

अमे-म्ह देवो अमिज्ज (महा)।

अमोल्ल वि [अमूल्य] जिसकी कीमत न हो गने घर, बहुमूल्य (गज्ज, सुपा ५१६)।

अमोल्लि न [दि अमुशलि] वस्त्रादि निरीक्षण का एक प्रकार (भोष २६५)।

अमोमा देवो अमुसा (कुमा)।

अमोह वि [अमोह] १ अवन्ध्य, सफन (सुजा ८३, ५७५)। २ पु सूर्य के उदय पार धन के ममय विरणों के विचार में होने वाला, पैगा विशेष (भग ३, ६)। एक नप का नाम (विपा १, ४)। ३ ऽसि वि

[दर्शिन] १ ठीक-ठीक देखनेवाला (दस ६)। २ न. उद्यान-विशेष। ३ पु यक्ष-विशेष (विपा १, ३)। ४ पहारि वि [प्रहारिन्] अचूक प्रहार करनेवाला, निशानबाज (महा)। ५ रह पु [रथ] इस नाम का एक रथिक (महा)।

अमोह पु [अमोह] १ मोह का अभाव, सत्य-ग्रह (विसे)। २ रुचक पर्वत का एक शिखर (ठा ८)। ३ वि मोहरहित, निर्मोह (सुपा ८३)।

अमोह पु [अमोघ] १ सूर्य-विम्ब के नीचे कभी-कभी दीखती श्याम आदि वर्षावाली रेखा (अणु १२१)। २ पुन. एक देवविमान (देवेन्द्र १४४)।

अमोहण न [अमोहन] १ मोह का अभाव (वव १०)। २ वि मुग्ध नहीं करनेवाला (कप्प)।

अमोहा स्त्री [अमोघा] १ एक जम्बूवृक्ष, जिसके नाम से यह जम्बूद्वीप कहलाता है (जीव ३)। २ एक पुष्करिणी (दीव)।

अम्म देखो अब = आम्ल (उर २, ६)।

अम्मएव पु [आम्रदेव] एक जैन आचार्य (पव २७६, गा ६०६)।

अम्मगा देखो अम्मया (उवा)।

अम्मच्छ वि [दे] असवद्ध (पड्)।

अम्मड देखो अंबड (औप)।

अम्मडो (अप) स्त्री [अम्वा] माता, माँ (हे ४, ४२४)।

अम्मणुअचिय न [दे] अनुगमन, अनुसरण (दे १, ४६)।

अम्मघाई देखो अवघाई (विपा १, ६)।

अम्मया स्त्री [अम्वा] १ माता, जननी (उवा)। २ पाचवें वासुदेव की माता का नाम (सम १५२)।

अम्महे (शी) अ हर्ष-सूचक अव्यय (हे ४, २८४)।

अम्मा स्त्री [दे अम्वा] माता, माँ (दे १, ५)। २ पिइ, पिउ, पियर, पीइ पु व [पितृ] माँ-बाप, माता-पिता (वव ३, कप्प, सुर ३, ८३, ठा ३, १, सुर ३, ८८, ७, १७०)। ३ पैइय वि [पैरु] माँ-बाप-संबन्धी (भग १, ७)।

अम्माइथा स्त्री [दे] अनुसरण करने वाली स्त्री, पीछे-पीछे जानेवाली स्त्री (दे १, २२)।

अम्मो अ [?] १ आश्चर्य-सूचक अव्यय (हे २, २०८, स्वप्न २६)। २ माता का संबोधन, हे माँ (उवा, कुमा)।

अम्मोगइया स्त्री [दे] समुख-गमन, स्वागत करने के लिए सामने जाना, 'राया सयमेव अम्मोगइयाए निग्गमो' (सुख २, १३)।

अम्मोस वि [अमर्ष्य] अक्षम्य, क्षमा के अयोग्य (सुपा ४८७)।

अम्ह स [अस्मत्] हम, निज, खुद (हे २, ६६, १४२)। २ केर, केर, चय वि [पीय] अस्मदीय, हमारा (हे २, ६६, सुपा ४६६)।

अम्हत्त वि [दे] प्रमृष्ट, प्रमार्जित (पड्)।

अम्हार } (अप) वि [अस्मदीय] हमारा
अम्हारय } (पड्, कुमा)।

अम्हारिच्छ वि [अस्माहत्] हमारे जैसा (प्राप्ता)।

अम्हारिस वि [अस्माहश] हमारे जैसा (हे १, १४२, पड्)।

अम्हेच्चय वि [अस्माक] अस्मदीय, हमारा (कुमा, हे २, १४९)।

अम्हो अ [अहो] आश्चर्य-सूचक अव्यय (पड्)।

अय पु [अग] १ पहाड, पर्वत। २ साँप, सर्प। ३ सूर्य, सूरज (आ २३)।

अय पु [अज] १ छाग, बकरा (विपा १, ४)। २ पूर्वभाद्रपद नक्षत्र का अधिष्ठात्यक देव (ठा २, ३)। ३ महादेव। ४ विष्णु। ५ राम-चन्द्र। ६ ब्रह्मा। ६ कामदेव (आ २३)। ८ महाग्रह-विशेष (ठा ६)। ९ वीजोत्पादक शक्ति से रहित धान्य (पउम ११, २५)। १० करक पु [करक] एक महाग्रह का नाम (ठा २, ३)। ११ वाल पु [पाल] आभीर (आ २३)।

अय पु [अय] १ गमन, गति (विसे २७६३, आ २३)। २ लाभ, प्राप्ति। ३ अनुभव (विसे)। ४ न पुरण्य (ठा १०)। ५ भाग्य, नसीब (आ २३)।

अय न [अक] १ दुःख। २ पाप (आ २३)।

अवसरण न [अपशकुन] अनिष्ट-सूचक
निमित्त, खराब शकुन (श्रीध ८१ भा, गा
२६१, सुपा ३६३)।
अवसकि वि [अपशङ्किन्] अपसरण-
कर्ता (सूत्र १, १२, ४)।
अवसक सक [अव + ष्वक्] पीछे हट
जाना। अवसकनेजा (आचा)।
अवसकण न [अवष्वकण] अपसरण, पीछे
हटना (पचा १३)।
अवसकि वि [अवष्वकिन्] पीछे हटने
वाला (आचा)।
अवसरण वि [दे] भरा हुआ, टपका हुआ
(पड्)।
अवसरण वि [अवसन्न] निमग्न, 'नागो
जहा पकजलावसरणो' (उत्त १३, ३०)।
अवसद् पु [अपशब्द] १ अशुद्ध शब्द
(सुर १६, २४८)। २ खराब वचन (हे १,
१७२)। ३ अपकीर्ति, अपयश (कुमा)।
अवसप्य अक [अव + सप्] पीछे हटाना।
२ निवृत्त होना। ३ उत्तरना। अवसप्यति
(पि १७३)।
अवसप्यण न [अवसर्पण] अपसरण, अप-
वर्तन (पउम ५६, ७८)।
अवसप्यि वि [अवसर्पिन] १ पीछे हटने-
वाला। २ निवृत्त होनेवाला (सूत्र १, २,
२)।
अवसप्यि वि [अवसर्पित] १ अपवृत्त।
२ निवृत्त। ३ अवतीर्ण (भवि)।
अवसप्यिणी देखो ओसप्यिणी (भग ३, २,
भवि)।
अवसमिआ (दे) देखो अवसमी (दे १
३७)।
अवसय वि [अपशब्द] नीच, अधम (ठा ४,
४)।
अवसर अक [अप+सृ] १ पीछे हटना।
२ निवृत्त होना। अवसरइ (हे १, १७२)।
क्र अवसरियन्व (उप १४६ टी)।
अवसर सक [अव + सृ] आश्रय करना।
सक 'ओसरणम अवसरित्ता' (चउ १८)।
अवसर पु [अवसर] १ काल, समय
(पाम्न)। २ प्रस्ताव, मौका (प्रासू ५७,
महा)।

अवसरण देखो ओसरण (पव ६२)।
अवसरण न [अपसरण] १ पीछे हटना।
२ निवृत्ति (गउड)।
अवसरिय वि [आवसरिक] सामयिक, सम-
योपयुक्त (सण)।
अवसरीर पु [अपशरीर] रोग, व्याधि,
'सव्वावसरीरहिओ' (उप ५६७ टी)।
अवसवस वि [अपस्ववश] पराधीन, पर-
तन्त्र (णाय १, १६)।
अवसव्व न [अपसव्व] वाम पार्व (णदि
१५९)।
अवसव्वय न [अपसव्वयक] शरीर का
दहिना भाग (उप पृ २०८)।
अवसह पु [आवसथ] घर, मकान (उत्त
३२)।
अवसह न [दे] १ उत्सव। २ नियम (दे
१, ५८)।
अवसाइअ वि [अप्रसादित] प्रसन्न नहीं
किया हुआ (से १०, ६३)।
अवसाण न [अवसान] १ नाश। २ अन्त
भाग (गउड, पि ३६६)।
अवसाय पु [अवश्याय] हिम, बर्फ (गउड)।
अवसारिअ वि [अप्रसारित] न फैला हुआ,
अविस्तारित (से, १)।
अवसारिअ वि [अपसारित] १ आकृष्ट,
लौचा हुआ (से १, १)। २ दूर किया हुआ,
हटाया हुआ (सुपा २२२)।
अवसावण न [अवसावण] १ कांजी (बृह
१)। २ भात वगैरह का पानी (सूक्त
८६)।
अवसावणिया स्त्री [अवस्वापनिका]
सुलानेवाली विद्या (धर्मवि १२४)।
अवसिअ वि [अपसृत] पीछे हटा हुआ
(से १३, ६३)।
अवसिअ वि [अवसित] १ समाप्त, परि-
पूर्ण। २ ज्ञात, जाना हुआ (विसे २४८२)।
अवसिज्ज अक [अव + सद्] हारना,
पराजित होना, 'एक्कोवि नावसिज्जइ' (विसे
२४८४)।
अवसिच्च वि [अवसिक्त] सींचा हुआ (रभा
३१)।

अवसिद् (शौ) वि [अवसित] समाप्त, पूर्ण
(अभि १३३, प्रति १०६)।
अवसिद्धंत पु [अपसिद्धान्त] दूषित सिद्धांत
(विसे २४५७, ६)।
अवसीय अक [अव + सद्] क्लेश पाना,
खिन्न होना। वक्र अवसीयत (पउम ३३,
१३१)।
अवसुअ अक [उद् + वा] सूखना, शुष्क
होना। अवसुअइ (पड्)।
अवसेअ पु [अवसेक] सिंचन, छिड़काव
(अभि २१०)।
अवसेअ वि [अवसेय] जानने योग्य (विसे
२६७१)।
अवसें (अप) देखो अवस (हे ४, ४२७)।
अवसेण देखो अवस, 'अवसेण भुजियन्वा
(पउम १०२, २०१)।
अवसेस पु [अवशेष] १ अवशिष्ट, बाकी
(सुपा ७७)। २ वि सब, सर्व (उप २११
टी)।
अवसेसिय वि [अवशेषित] १ समाप्त
किया हुआ, पार पहुँचाया हुआ (से ४,
४७)। २ बाकी का, अवशिष्ट (भग)।
अवसेह सक [गम्] जाना। अवसेहइ (हे
४, १६२)। अवसेहति (कुमा)।
अवसेह अक [नश्] भागना, पलायन
करना। अवसेहइ (हे ४, १७८, कुमा)।
अवसोइया स्त्री [अवस्वापिका] निद्रा (सुपा
६०६)।
अवसोग वि [अपशोक] १ शोक-रहित।
२ देव-विशेष (दीव)।
अवसोग वि [अपशोग] थोड़ा लाल
(गउड)।
अवसोवणी स्त्री [अवस्वापनी] निद्रा (सुपा
४७)।
अवस्स वि [अवश्य] जरूरी, नियत (आवम,
आव ४)। °कम्म न [°कर्मन्] आवश्यक
क्रिया (आहू १)। °करणिज्ज वि [°करणीय]
अवश्य करने लायक कर्म, सामयिक आदि।
°किरिया स्त्री [°क्रिया] आवश्यक अनुष्ठान
(आहू १)। °किच्च वि [°कृत्य] आवश्यक
कार्य (दे)।

चक्रवर्ती राजा, 'सुमिरो अर महरिह पासइ जणणी अरो तम्हा' (आव २, सम ५३, उत १८) । ३ समय का एक परिमाण, कालचक्र का बाहर्वा हिस्सा । (ती २१) ।

°अर पुं [°अर] १ किरण । गा ३४३, से १, १७) । २ हस्त, हाथ (से १, २८) । ३ गुल्फ, चुगी (से १, २८) ।

अरइ स्त्री [अरति] अशं, मसा (आचा २, १३, १) ।

अरइ स्त्री [अरति] १ वेचैनी । (भग, आचा, उतर) । २ धम्म न [°कर्मन्] अरति का हेतुभूत नर्मविशेष (ठा ६) । ३ परिसह, °परीसह पु [°परिपह, °परोपह] अरति को सहन करना (पच ८) । ४ मोहगिज्ज न [°मोह-नीय] अरति का उत्पादक कर्म-विशेष (कम्म १) । ५ रड स्त्री [°रति] सुख-दुःख (ठा १) ।

°अरग देखो तरग (से २, २६) ।

अरजर पुन [अरजर] घडा, जल-घट (ठा ४, ४) ।

°अरकय देखो वरकय (से ६, ४४) ।

अरम्परी स्त्री [अराक्षरी] नगरी-विशेष (आव) ।

अरग देखो अर (पएह २, ४, भग ३, ५) ।

अरन्किम नि [अरहित] निरन्त, रसतत, 'अरन्किमाभितावा' (सुअ १, ५, १) ।

अरट्ट पु [अरट्ट] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी) ।

अरण न [अरण] हिमा (उव) ।

अरणि पु [अरणि] १ वृक्ष-विशेष । २ इप वृत्त का नवदी, जिमको घिमने पर अग्नि जन्दी पैदा होनी है (आवम, णाय १, १८) ।

अर्रांग पुत्री [दे] १ रास्ता, मार्ग । २ पक्ति, गतार । (पड्) ।

अरगिमा न [अरगिमा] वनस्पति-विशेष (माना) ।

अरण्टय पु [दे अरण्टक] पत्यरो के दुग्धा ने मिनी हूरे मकेद मिट्टी (जी ३) ।

अरण्ण नि [आरण्ण] जगन ने रहने वाला (अप १, १, १, १६) ।

अरण्ण न [अरण्ण] वन, जान (हि १, ६६) । २ हिंसग न [अरण्ण] देवविमान

विशेष (सम ३६) । ३ साण पु [°अन्] जगली कुत्ता (कुमा) ।

अरण्णय वि [आरण्णय] जगली, जगल-वासी (अग्नि ५२) ।

अरत्त वि [अरत्त] राग-रहित, नीराग (आचा) ।

अरन्न देखो अरण्ण (कण्, उव) ।

अरवाग पु [दे] एक अनार्य देश, अरव देश (पव २७४) ।

अरमतिया स्त्री [अरमन्तिका] अरमणता, कार्य मे अतत्परता (उवा) ।

अरय देखो अर (खेत १०८) ।

अरय वि [अरजस्] १ रजोगुण-रहित (पउम ६, १४६) । २ एक महाग्रह का नाम (ठा २, ३) । ३ वि ध्रुवीरहित, निर्मल (कण्) । ४ न पाचवें देव लोक का एक प्रतर (ठा ६) । ५ रजोगुण का अभाव, 'अरो य अरय पत्तो पत्तो गइमणुतर' (उत १८) ।

अरय वि [अरत] अनासक्त, नि स्पृह (आचा) ।

अरय पुन [अरजस्] एक देवविमान (देवेन्द्र १४१) ।

अरया स्त्री [अरजा] कुमुद नामक विजय की राजधानी (ज ४) ।

अरयगि पु [अरग्नि] परिमाण विशेष, खुली अगुलीवाला हाथ (ठा ४, ४) ।

अरर न [अरर] १ युद्ध । २ ढकना । ३ कुरी स्त्री [°कुरी] नगरी-विशेष (धम्म ६ टी) ।

अररि पुन [अररि] किवाड, द्वार (प्राप्ता) ।

अरल्ल न [दे] १ चोरी, कीट-विशेष । २ मशक, मच्छड (दे १, ६३) ।

अरलाया स्त्री [दे] चोरी, कीट-विशेष (दे १, २६) ।

अरल्ल देखो अरड्ड (पउम ४२, ८) ।

अरविंद न [अरविन्द] कमल, पव (पएह २, ४) ।

अरविंदर वि [दे] दीर्घ लम्बा (दे १, ४५) ।

अरस पु [अरम] रसरहित, नीरस (णाय १, ५) ।

अरस पु [अरस] व्यापि विशेष, बवासीर (आ २२) ।

अरस न [अरस] तप-विशेष, निर्विकृति (सवोष ५८) ।

अरह वि [अहंन्] १ पूजा के योग्य, पूज (पड्, हे २, १११) । २ पु जिनदे तीर्थंकर (सम्म ६७) । ३ मित्त पु [°मित्त] एक व्यापारी का नाम (गच्छ २) ।

अरह देखो अरिह = अहं । अरहइ (२८) ।

अरह वि [अरहस्] १ प्रकट । २ रि कुछ भी न छिपा हो । ३ पु जिनदेव, स (ठा ४, १, ६) ।

अरह वि [अरथ] परिग्रहरहित (भग) ।

अरहत वट्ट [अहंन्] १ पूजा के योग्य पूज्य (षड्, हे २, १११, भग ८, ५) पु जिन भगवान्, तीर्थंकरदेव (आच ३, ४) ।

अरहन वि [अरहोन्तर] १ सर्वज्ञ, सब कु जाननेवाला । २ पु जिन भगवान् (भग २)

अरहत वि [अरथान्त] १ नि स्पृह, निर्म २ पु जिनदेव (भग) ।

अरहत वट्ट [अरहयन्] १ अपने स्व को नही छोडनेवाला । २ पु जिनेश्वर देव (भग) ।

अरहट्ट पु [अरघट्ट] अरहट, रहट, चरखा, पानी निकालने का यन्त्र विशेष (गा ४६०, प्रासु ५५), 'अग्निओ कालमणुत अरहट्टघडिब्ब जलमज्जे' (जीवा १) ।

अरहट्टिय वि [अरघट्टिक] अरहट चलाने वाला (कुप ५४) ।

अरहणा स्त्री [अहंणा] १ पूजा । २ योग्य (प्राक २८) ।

अरहण्णय पु [अरहण्णक] एक व्यापारी का नाम (णाय १, ८) ।

अरहन्न पु [अहंन्न] एक जैन मुनि का नाम (सुख २, ६) ।

अराइ पु [अराति] रिपु, दुश्मन (कुमा) ।

अराइ स्त्री [अरात्रि] दिन, दिवस (कुमा) ।

अरागि वि [अरागिन्] रागरहित, नीतराग (पउम ११७, ४१) ।

अरि देखो अरे (तड् ५०, ५२ टी) ।

अरि पु [अरि] दुश्मन, रिपु (पउम ७३, १६) ।

अरि पु [अरि] दुश्मन, रिपु (पउम ७३, १६) ।

सुपा ४२३) । °मण वि [°मनस्] तल्लीन, एकाग्र-चित्त (सुपा ६) ।
 अवहिय वि [रचित्त] निमित्त, बनाया हुआ (कुमा) ।
 अवहीण वि [अवहीन] हीन, उतरता, कम दरजा वाला (नाट, पि १२०) ।
 अवहीय वि [अपधीक] निम्न बुद्धिवाला, दुर्बुद्धि (पणह १, २) ।
 अवहीर सक [अव + धीरय्] श्रवज्ञा करना, तिरस्कार करना । अवहीरेद (महा) । वक्क अवहीरत (सुपा ३१२) । कक्क अवहीरिज्जत (सुपा ३७६) । सक्क अवहीरिऊण (महा) ।
 अवहीरण न [अवधीरण] श्रवहेलना, तिरस्कार (गा १४६, अमि ६८, गउड) ।
 अवहीरण्णा ली [अवधीरणा] ऊपर देखो (से १३, १६, वेणी १८) ।
 अवहीरमाण देखो अवहर = अण + ह ।
 अवहीरिअ वि [अवधीरित्त] श्रवज्ञात, तिरस्कृत (से ११, ७, गउड) ।
 अवहील देखो अवहीर । अवहीलह (सण) ।
 अवहीला ली [अवहेला] श्रनादर (सिदि १७६) ।
 अवहूय वि [अवधूत] मार भगाया हुआ (सबोध ५२) ।
 अवहेअ वि [दे] दया-योग्य, कृपा-पात्र (दे १, २२) ।
 अवहेड सक [मुच्] छोडना, त्याग करना । अवहेडइ (हे ४, ६१) । सक्क अवहेडिउ (कुमा) ।
 अवहेडग पुन [अवहेटक] आघे सिर का अवहेडय्] दर्द, आघा सीसी रोग (उत्तनि ३) ।
 अवहेडिय वि [दे] नीचे की तरफ मोडा हुआ, श्रवमोदित (उत्त १२) ।
 अवहेरी } ली [अवहेला] श्रवगणना, तिर-
 अवहेरी } स्कार (उप २६०, ५६७ टी, मवि, सुपा २६१, महा) ।
 अवहेलअ वि [अवहेलक] तिरस्कारक (सुपा १०६) ।
 अवहेलण वि [अवहेलन] उपेक्षा करने वाला (सुप्र २, ६, ५३) ।
 अवहोअ पुं [दे] विरह, वियोग (षड्) ।

अवहोडय देखो अवओडग, 'सो बड्डो अवहोड-एण' (सुप्र २, २५) ।
 अवहोमुह वि [उभयमुख] दोनो तरफ मुह वाला (प्राक् ३०) ।
 अवहोल अक [अव + होलय्] १ भूलना । २ सदेह करना । वक्क अवहोलन्त (णायमा १, ८) ।
 अवाइ वि [अपायिन्] १ दु ली । २ दोषी, अपराधी, 'निठिभच्चसचवाई होइ अवाई य नेह-लोएवि' (सुपा २७५) ।
 अवाईण वि [अवाचीन] अघोमुख (णायमा १, १) ।
 अवाईण वि [अवातीन] वायु से अनुपहत (णायमा १, १) ।
 अवाउड वि [अ-उयापूत] किसी कार्य मे न लगा हुआ (उप वृ ३०२) ।
 अवाउड वि [अप्रावृत] अनाच्छादित, नग्न, दिग्म्बर (णायमा १, १, डा ५, १) ।
 अवाडिअ वि [दे] वञ्चित, प्रतारित (षड्) ।
 अवाण देखो अपाण (पात्र, विपा १, ६) ।
 अवाय पु [अपाय] पानी का आगमन (आ २३) ।
 अवाय वि [अपाय] भाग्यरहित (आ २३) ।
 अवाय वि [अपाग] कुसरहित (आ २३) ।
 अवाय वि [अपाक] पापरहित (आ २३) ।
 अवाय पु [अवाय] प्राप्ति (आ २३) ।
 अवाय पु [अपाय] १ अनर्थ, अनिष्ट (डा १) । २ दोष, दूषण (सुर ४, १२०) । ३ उदाहरण-विशेष (डा ४, ३) । ४ विनाश (धर्म १) । ५ वियोग, पार्थक्य (एदि) । ६ सशय-रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष (डा ४, ४, एदि) ।
 °दसि वि [°दर्शिन्] भावी श्रनर्थों को जाननेवाला (डा ८, द्र ४६) । °विजय न [°विचय, °विजय] ध्यान-विशेष (डा ४, २) ।
 अवाय पु [अवाय] सशय रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष, मति ज्ञान का एक भेद (डा ४, ४, एदि) ।
 अवाय वि [अम्लान] अम्लान, म्लानरहित, ताजा, 'अवायमल्लमडिया' (स ३७२) ।
 अवायाण न [अपादान] कारक-विशेष, स्थानान्तरिकरण (डा ८, विसे २०६६) ।

अवार वि [अपार] पार-रहित, श्रनन्त (मे ६८) ।
 अवार पु [दे] दूकान, हाट (दे १, १२) ।
 अवारी ली [दे] ऊपर देखो (दे १, १२) ।
 अवालुआ ली [दे] होठ का प्रान्त भाग (दे १, २८) ।
 अवाव पु [अवाप] रसोई, पाक । °कहा ली [°कथा] रसोई-सम्बन्धी कथा (डा ४, २) ।
 अवास } (अण) देखो अवसें (पड्) ।
 अवसें }
 अवाह पु [अवाह] देश-विशेष (इक) ।
 अवाहा देखो अवाहा (श्रीप) ।
 अवि अ [अपि] निम्नलिखित श्रर्थों का सूचक श्रव्यय—१ श्रन (से ५, ४) । २ श्रवधारण, निश्चय (आचा, गा ५०२) । ३ समुच्चय (विसे ३५५१, भग १, ७) । ४ सभावना (विसे ३५४८, उत्त ३) । ५ विलाप (पात्र) । ६-७ वाक्य के उपन्यास और पादपूर्ति मे भी इसका प्रयोग होता है (आचा, पठम ८, १४६ पड्) ।
 अवि पु [अवि] १ अज । २ मेघ (विसे १७७४) ।
 अविअ वि [दे] उक्त, कथित (दे १, १०) ।
 अविअ वि [अवित] रक्षित (दे ५, ३५) ।
 अविअ अ [अपिच] विशेषण-सूचक श्रव्यय (पचा ७, २१) ।
 अविअ अ [अपिच] समुच्चय-प्रोक्त श्रव्यय (सुर २, २४६, भग ३, २) ।
 अविअ पु [अविक] मेघ, भेड (आचा) ।
 अविउ वि [अवित्] अज्ञ, मूर्ख (सट्टि ४६) ।
 अविउक्कंति वि [अव्युत्क्रान्ति] उलटि-रहित (भग) ।
 अविउसरण न [अव्युत्सर्जन] अपरित्याग, पास मे रखना (भग) ।
 अविकप वि [अविकम्प] निश्चल (पचा १८, ३५) ।
 अविकरण न [अविकरण] गृहीत वस्तुओं को यथास्थान न रखना (बृह ३) ।
 अविकल देखो अवेकल । अविक्कइ (महा) ।
 हेक्क अविक्खिउं (स ३०७) । क्क अविक्खणिज्ज (विसे १७१६) ।
 अचिक्खग वि [अपेक्क] अपेक्षा करने वाला (विसे १७१६) ।

अरुवि वि [अरुपिन्] ऊपर देखो (ठा १, ३, आचा, परण १)।

अरे अ [अरे] १-२ समापण और रति-कनह का सूचक अव्यय (हे २, २०१, पड्)।

अरे अ [अरे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ आक्षेप। २ विस्मय, आश्चर्य। ३ परिहास, ठट्ठा (सक्ति ३८, ४७)।

अरोअ अक [उत् + लस्] उल्लास पाना, विवसित होना। अरोअइ (हे ४, २०२, कुमा)।

अरोअअ पु [अरोचक] रोग-विशेष, अन्न की अर्पण (आ २२)।

अरोइ वि [अरोचिन्] अरुचि वाला, रुचि-रहित, 'अरोइ अत्ये कहिण विलावो' (गोय ७)।

अरोग वि [अरोग] रोगरहित (भग १८, १)। 'या ली [ता] आरोग्य, नीरोगता (उप ७२८ टी)।

अरोगि वि [अरोगिन्] नीरोग, रोग-रहित। 'या ली [ता] आरोग्य, तदुवल्ली (महा)।

अरोगा } देखो आरोप = आरोग्य (आचा २, अरोप } १५, २)।

अरोस वि [अरोप] १ गुस्सा-रहित। २-३ पु एक म्लेच्छ देश और उसमें रहनेवाली म्लेच्छ जाति (परह १, १)।

अल न [अल] १ विच्छेद के पुच्छ का अग्र भाग,

'अनमेव निच्छेदण, मुहमेव अहीण तह य मदस्स।

दिट्ठि मिय विमुणाणं,
सव्व मव्वम्म भय-जणाय'
(प्रासू १९)।

२ अनादीना का एक मिहामन (आया २)।

३ नि समदं (आचा)। 'पट्ट न [पट्ट] चि' की प्रथम जेहे आकारवाला एक शब्द (विपा १, ६)।

'अल देवो नल (गा ७५, ने १, ७८)।

अल ष [अलम्] १ पर्याप्त, पूर्ण, 'अनमा-एदं जणोए' (सुर १३, २१)। २ प्रतिषेध, निवारण, बन्ध (उप २, ७)।

अल ष [अलम्] अलङ्कार, भूषा (सूत्रनि २-२)।

अलङ्कर सक [अलं + कृ] भूषित करना, विराजित करना। अलङ्करेंति (पि ५०६)।

वक्त्र अलङ्करत (माल १४३)। सङ्घ. अल-कारिअ (पि ५८१)। प्रथो, कर्म अलङ्करा-वीथड (स ६४)।

अलङ्करण न [अलङ्करण] १ आभूषण, अल-कार (रयण ७४, भवि)। २ वि शोभा-कारक, 'मञ्जमलोअस्स अलङ्करण सुलोअणि' (विक्र १४)।

अलङ्करिय वि [अलङ्कृत] सुशोभित, विभूषित, 'कि नयरमलकरिय जम्ममहेण तए महापुरिस' (सुपा ५८४, सुर ४, ११८)।

अलङ्कार पु [अलङ्कार] १ शास्त्र-विशेष, साहित्यशास्त्र (सिरि ५५, सिक्खा २)। २ पुन एक देवविमान (देवेन्द्र १३५)।

अलङ्कार पु [अलङ्कार] १ भूषण, गहना (श्रीप राय)। २ भूषा, शोभा (ठा ४, ४)। 'सहा ली [सभा] भूषा-गृह, शृङ्गार-धर (इक)।

अलङ्कारिय पु [अलङ्कारिक] नापित, नाई, हजाम (आया १, १३)। 'कम्म न [कर्मन्] हजामत, क्षौर कर्म (आया १, १३)। 'सहा ली [सभा] हजामत बनाने का स्थान (आया १, १३)।

अलङ्किय वि [अलङ्कृत] १ विभूषित, सुशो-भित (कप्प, महा)। २ न सगीत का एक गुण (जीव ३)।

अलङ्कुण देखो अलङ्कर। अलङ्कुणति (रयण ५२)।

अलघ वि [अलङ्घ्य] १ उल्लघन करने के अयोग्य (सुर १, ४१)। २ उल्लघन करने के अशक्य (उप ५६७ टी)।

अलघणिय } वि [अलङ्घनीय] ऊपर देखो
अलघणीय } (महा, सुपा ६०१, पि ६६, नाट)।

अलप पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे १, १३)।

अलपुसा ली [अलम्पुसा] १ एक दिक्कुमारी देवी का नाम। (ठा ८)। २ गुल्म-विशेष। (पात्र)।

अलभि ली [अलाभ] अप्राप्ति (श्रीप २३, ना)।

अलका ली [अलका] नगरी-विशेष, पहले

प्रतिवासुदेव की राजधानी (पडम २०, २०१)। देखो अलया।

अलङ्ख पु [अलङ्ख] १ इस नाम का एक राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अत १८)। २ न. 'अंतगडदसा' सूत्र के एक अध्येयन का नाम। (अत १८)।

अलङ्ख वि [अलङ्ख्य] लक्ष्य में न आ सके ऐसा (सुर ३, १३६, महा)।

अलङ्खमाण वि [अलङ्खमाण] जो पहि-चाना न जा सकता हो, गुप्त (उप ५६३ टी)।

अलङ्खिय वि [अलङ्खित] १ अज्ञात, अपरिचित। (से १३, ४५)। २ न पहचाना हुआ। (सुर ४, १४०)।

अलग देखो अलय = अलक (महा)।

अलगा देखो अलया (अत १)।

अलग न [दे] कलक देना, दोष का झूठा आरोप (दे १, ११)।

अलचपुर न [अचलपुर] नगर-विशेष (कुमा)।

अलज्ज वि [अलज्ज] निर्लज्ज, बेशरम (परह १, ३)।

अलज्जि वि [अलज्जालु] ऊपर देखो (गा ६०, ४४५, ६६१, महा)।

अलट्टपल्लट्ट न [दे] पार्श्व का परिवर्तन (दे १, ४८)।

अलत्त पु [अलत्त] आलता, छियाँ हाथ-पैर को लाल करने के लिए जो रंग लगाती हैं वह (अनु ५)।

अलत्तय पु [अलत्तक] १ ऊपर देखो। (सुपा ४०६)। २ वि आलता से रंगा हुआ (अनु)।

'अलधोय देखो कलधोय (से ६, ४६)।

अलमजुल वि [दे] आलसी, सुस्त (दे १, ४६)।

अलमथु वि [अलमस्तु] १ समर्थ। २ निषेधक, निवारक। (ठा ४, २)।

अलमल पु [दे] दुर्दान्त बैल (दे १, २५)।

अलमलवसह पु [दे] उन्मत्त बैल (दे १, २५)।

अलय न [दे] विद्रुम, प्रवाल (दे १, १६, भवि)।

अविहड पु [दे] बालक, बच्चा (बृह १) ।
 अविहच वि [अविभव] दरिद्र (गजड) ।
 अविहवा स्त्री [अविधवा] जिसका पति जीवित हो वह स्त्री, सववा (शाया १, १) ।
 अविहा देखो अविदा (अभि २२४) ।
 अविहाड वि [अविघाट] अविघट (वव ७) ।
 अविहाविअ वि [दे] १ दीन, गरीब । २ न मौन (दे १, ५६) ।
 अविहाविअ वि [अविभावित] अनालोचित (गजड) ।
 अविहि देखो अविधि (दस १) ।
 अविहिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (पड) ।
 अविहित वक्तु [अविज्ञन्] नहीं मारता हुआ, हिंसा नहीं करता हुआ ।
 'ध्वजेमिति परिणामो, सपत्नीए विमुच्ये वेरा ।
 अविहितो वि न मुच्ये, किलिडुभावोति वा तस्स' (ओष ६०) ।
 अविहिंस वि [अविहिंस] अहिंसक (आचा) ।
 अविहिंसा स्त्री [अविहिंसा] अहिंसा (सूत्र १, २, १) ।
 अविहीर वि [अप्रतीक्ष] प्रतीक्षा नहीं करने वाला (कुमा) ।
 अविहेडय वि [अविहेटक] आदर करनेवाला (दस १०, १०) ।
 अवी देखो अवि (उत्त २०, ३८) ।
 अवीडय अ [अविचिच्य] अलग न हो कर (भग १०, २) ।
 अवीडय [अविचिच्य] विचार न कर (भग १०, २) ।
 अवीय वि [अद्वितीय] १ असाधारण, अनुपम (कुमा) । २ एकाकी, असहाय (विपा १, २) ।
 अवुक्क सक [वि + ज्ञपय] विज्ञप्ति करना, प्रार्थना करना । अवुक्कइ (हि ४, ३८) । वक्तु, अवुक्कंत (कुमा) ।
 अवुद्ध वि [अवृद्ध] तल्लण, जवान (कुमा) ।
 अवुग्गाह देखो अविग्गाह (ठा ५, १) ।
 अवुह देखो अवुह (सण) ।
 अवुह देखो अवोह (शाया १, १) ।
 अवे सक [अव + ई] जानना । अवेमि (विसे १७७३) ।
 अवे अक [अप+इ] दूर होना, हटना । अवेइ (स २०) । अवेह (मुद्रा १६१) ।

अवेक्ख सक [अप + ईत्त] अपेक्षा करना । अवेक्खइ (महा) ।
 अवेक्ख सक [अव+ईत्त] अवलोकन करना । अवेक्खाहि (स ३१७) सक अवेक्खऊण (स ५२७) ।
 अवेक्खा स्त्री [अपेक्षा] अपेक्षा, परवाह (सुर ३, ८४, स ५६२) ।
 अवेक्खि वि [अपेक्षिन्] अपेक्षा करनेवाला (गजड) ।
 अवेक्खि वि [अपेक्षित] जिसकी अपेक्षा हुई हो वह (अभि २१६) ।
 अवेक्खि वि [अवेक्षित] अवलोकित (अभि १६६) ।
 अवेय वि [अपेत] रहित, वजित (विसे २२१३) । रुइ वि [रुचि] रुचि-रहित, निरीह (उप ७२८ टी) ।
 अवेय वि [अवेद, °क] १ पुष्प-वेदादि अवेयग १ वेद से रहित (परण १) । २ युक्त, मोक्ष-प्राप्त (ठा २, १) ।
 अवेसि देखो अवेसि (दे १, ८, पात्र) ।
 अवेह देखो अवेक्ख = अव + ईत्त । अवेहइ (सूत्र ६) ।
 अवोअड वि [अव्याकृत] अव्यक्त, अस्पष्ट (भास ७६) ।
 अवोच्छिण्ण देखो अवोच्छिण्ण (आचा) ।
 अवोच्छित्ति देखो अवोच्छित्ति (ठा ५, ३) ।
 अवोह सक [अप + ऊह] १ विचार करना । २ निर्णय करना । अवोहए (आवम) ।
 अवोह पु [अपोह] १ विकल्पज्ञान, तर्क-विशेष । २ त्याग, वर्ज्य (उप ६६७) । ३ निर्णय, निश्चय (एदि) ।
 अव्वईभाव पु [अव्ययीभाव] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास (अणु) ।
 अव्वग वि [अव्यङ्ग] अक्षत, अखण्ड (वव ७) ।
 अव्वग न [अव्यङ्ग] १ पूर्ण अंग, पूरा शरीर । २ वि अविच्छिन्न, अन्यून, सपूर्ण, 'परि-हियअव्वगघोयसियवसणा' (धर्मवि १७, १५) ।
 अव्वक्खि वि [अव्याक्षिप्त] १ विक्षेप-रहित । २ तल्लोन, एकाग्र (उत्त २०) ।

अव्वग वि [अव्यग्र] व्यवृत्ताशून्य, अनाकुल (उत्त १५) ।
 अव्वत्त वि [अव्यक्त] १ अस्पष्ट, अस्पष्ट अव्यक्तय १ उप ७६८ टी, सुर ४, २१४, आ २७) । २ छोटी उमर का बालक, बच्चा (निचू १८) । ३ अगीतार्थ, शास्त्र-रहस्यान-भिज्ञ (साधु) (धर्म २, आचा) । ४ पु-अव्यक्त मत का प्रवर्तक एक जैनाभास मुनि (ठा ७) । ५ न साध्य मत में प्रसिद्ध प्रकृति (आवम) । ६ भय न [°मत्त] एक जैनाभास मत (विसे) ।
 अव्वत्तव्व वि [अव्यक्तव्य] १ अव्यक्तव्य । २ पु कर्मबन्ध विशेष, जब जीव सर्वथा कर्म-बन्धरहित होकर फिर जो कर्मबन्ध करे वह (पव ५, १२) ।
 अव्वत्तिय देखो अवत्तिय (श्रौप, विसे, आवम) ।
 अव्वभिचारि वि [अव्यभिचारिण] ऐकान्तिक (पचा २, ३७) ।
 अव्वय न [अव्यय] 'व' आदि निपात (वेद्य ६८३) ।
 अव्वय न [अव्यत] १ व्रत का अभाव (आ १६, सम १३२) । २ वि व्रतरहित (विसे २५४२) ।
 अव्वय वि [अव्यय] १ अक्षय, अखूट (सुपा ३२१) । २ नित्य, शाश्वत (भग २, १) ।
 अव्वयसिय वि [अव्ययसित्त] १ अनिश्चित, सदिग्ध । २ अपराक्रमी (ठा ३, ४) ।
 अव्वयसण वि [अव्ययसन] १ व्यसन-रहित । २ पुन लोकोत्तर रीति से १२ वां दिन (जं ७) ।
 अव्वह वि [अव्यय] १ व्यथारहित । २ न निश्चल ध्यान (ठा ४, १, श्रौप) ।
 अव्वहिय वि [अव्यथित] १ अपीडित (पचा ५) । २ निश्चल (बृह १) ।
 अव्वा स्त्री [अर्वाक] पर से भिन्न, 'एो ह्वाए एो पाराए' (सूत्र २, १, ६) ।
 अव्वा स्त्री [दे अम्वा] माता, जननी (दे १, ५, (पड) ।
 अव्वाइद्ध वि [अव्याविद्ध] १ अविपर्यन्त, अविपरीत । २ न सूय का एक गुण, अखरो की उलट-मुलट का अभाव (बृह १, गच्छ २) ।

अल्ल—अवग

सूरि का उपाध्याय अवस्था का नाम (सुर १६, २३६)।

अल्लल्ल पु [दे] मयूर, मोर (दे १, १३)।

अल्लविय [अप] देखो आल्ल = आलपित (भवि)।

अल्ला ली [दे] माता, मा (दे १, ५)।

अल्लि } देखो अल्ली। अल्लिइ (पड्)।
अल्लिअ } अल्लिअइ (दे १, ५८, हे ४, ५४)।

वक् अल्लिअत (से १२, ७१, पञ्च १२, ५१)।

अल्लिअ सक [उप + सृप्] समीप मे जाना। अल्लिअइ (हे ४, १३६)। वक् अल्लिअत (कुमा)। प्रयो अल्लियावेइ (पि ४८२, ५८१)।

अल्लिअ वि [आद्रित] गीला किया हुआ (गा ४४०)।

अल्लियावण न [आलापन] आलीन करना, चिट्ठ करना, मिलान (भग ८, ६)।

अल्लिल्ल पु [दे] ममरा (पड्)।

अल्लिय सक [अर्पय] अर्पण करना। अल्लियइ (हे ८, ३६, भवि, पि १६६, ४८५)।

अल्ली } मक [आ + ली] १ आना। २
अल्लीअ } प्रवेश करना। ३ जोडना। ४
आय करना। ५ आलिगन करना। ६ अक
मगत होना। अल्लीअइ (हे ४, ५४)। भूका
अलीमी (प्रामा) हेक् अल्लीअ (वृह ६)।

अल्लीण वि [आलीन] १ आच्छिष्ट। २
प्रात। ३ प्रविष्ट। ४ सगत। ५ योजित।
६ घोडा नीन (हे ४, ५४)। ७ आवित
(कम्प)। ८ तल्लीन, तत्पर (वव १०)।

अल्लेम वि [अल्लेय] लेश्यारहित (कम्म ४, ५०)।

अल्लोग देगा अल्लोग (द्रव्य १६)।

अल्लाइ पु [आह्लाद] सुखो, प्रमोद, आनन्द (प्राद)।

अप प [अप] एन अर्थो का सूचक अव्यय—
१ मित्रता, उद्यान, 'अववय, अवगुण'।
२ मन्तो, पोदेन, 'अवमद'। ३ बुरापन,
गणवन्त, 'अवनग, अवनद'। ४ न्यूनता,
कमो, 'अवद'। ५ रहितन, नियोत 'अव-
वन्'। ६ चोरन 'अवमर'।

अव अ [अव] निम्नलिखित अर्थो का सूचक
अव्यय—१ निम्नता, 'अवइएण'। २ पीछेपन,
'अवउल्लो'। ३ तिरस्कार, अनादर, 'अव-
गएण'। ४ खराबी, बुराई, 'अवगुण'। ५
गमन। ६ अनुभव (राज)। ७ हानि, हास,
'अवक्कास'। ८ अभाव, 'अवलद्धि'। ९ मर्यादा
(विमे ८२)। १० निरर्थक भी इसका प्रयोग
होता है, 'अवपूइ, अवगल्ल'।

अव सक [अव्] १ रक्षण करना, 'अवतु
मुण्णियो य पयकमल' (रयण ६)। २ जाना,
गमन करना। ३ इच्छा करना। ४ जानना।
५ प्रवेश करना। ६ सुनना। ७ माँगना,
याचना। ८ करना, बनाना। ९ चाहना। १०
प्राप्त करना। ११ आलिङ्गन। १२ मारना,
हिंसा करना। १३ जलाना। १४ अक प्रीति
करना। १५ सुप्त होना। १६ प्रकाशना।
१७ बढना। अव (आ २३, विसे २०२०)।

अव पु [अव] शब्द, आवाज (आ २३)।

अवअवख सक [दृश] देखना। अवअवखइ
(हे ४, १८१, कुमा)।

अवअक्खिअ न [दे] निवापित मुख, मुडाय
हुआ मुंह (दे १, ४०)।

अवअच्छ न [दे] कषा-वज्र (दे १, २६)।

अवअच्छ अक [ह्लाद्] आनन्द पाना, खुश
होना। अवअच्छइ (हे ४, १२२)।

अवअच्छ सक [ह्लादय्] खुश करना।
अवअच्छइ (हे ४, १२२)।

अवअच्छिअ [दे] देखो अवअक्खिअ (दे
१, ४०)।

अवअच्छिअ वि [ह्लादित] १ हृष्ट,
आह्लाद प्राप्त। २ खुश किया हुआ, हर्षित
(कुमा)।

अवअज्ज सक [दृश्] देखना। अवअज्जइ
(पड्)।

अवअणिअ वि [दे] असपटित, असयुक्त (दे
१, ४३)।

अवअण्ण पु [दे] जल, धूल (दे १, २६)।

अवअत्त वि [अपयुत्त] स्थलित (से १०,
१८)।

अवआस सक [दृश्] देखना। अवआसइ
(हे ४, १८१, कुमा)।

अवइ वि [अत्रतिन्] अतशून्य, अविरत,
असयत (बृह १)।

अवइण्ण वि [अवतीणे] १ उतरा हुआ, नीचे
आया हुआ। २ जन्मा हुआ (कप्पु, पञ्च ७६,
२८)।

अवइद (शौ) वि [अवचित] एकत्रित, इकट्ठा
किया हुआ (अभि ११७)।

अवइद (शौ) वि [अपकृत] १ जिसका ग्रहित
किया गया हो वह। २ न अपकार, ग्रहित
(चाह ४०)।

अवइन्न देखो अवइण्ण (सुर ३, १२२)।

अवउज्ज सक [अवकुब्ज] नीचे नमना।
सक् अवउज्जिय (आचा २, १, ७)।

अवउज्ज सक [अप + उज्ज्] परित्याग
करना। छोड देना। सक् अवउज्जिअण
(बृह ३)।

अवउज्जं देखो अववह।

अवउडग } देखो अवओडग (गाया १, २,
अवउडय } अनु)।

अवउठण न [अवगुण्ठन] १ ढकना। २
मुह ढकने का वज्र, बूँट (चाह ७०)।

अवउठ वि [अवगूढ] आलिगित, 'सम्भावह-
अवउठो एववारिहरोब्ब विञ्जुलापडिभित्तो'
(हे २, ६, स ४६६)।

अवउसण न [अपवसन] तपश्चर्या-विशेष
(पचा १६)।

अवउसण न [अपजोषण] ऊपर देखो (पचा
१६)।

अवउहण न [अवगूहन] आलिङ्गन (गा
३३४, ५५९, वजा ७४)।

अवएड पु [अवएज] तापिका-हस्त, पात्र-
विशेष (गाया १, १ टी—पत्र ४३)।

अवएस पु [अपदेश] बहाना, छल (पाद्य)।

अवओडग न [अवओटक] गले को मरोडना,
कुकटिका को नीचे ले जाता (विपा १, २)।
'बंधण न [बंधन] १ हाथ और सिर को
पृष्ठ भाग से बांधना (परह १, २)। २ वि-
रस्ती से गला और हाथ को मोडकर पृष्ठ भाग
के साथ जिसको बाधा जाय वह (विपा १,
२)।

अवग पु [अपाङ्ग] नेत्र का प्रांत भाग (सुट
३, १२४, ११, ६१)।

असगहिय वि [असगृहीत] १ जिसका सग्रह न किया गया हो वह । २ अनाश्रित (ठा ८) ।
 असगहिय वि [असग्रहिक] १ सग्रह न करने वाला । २ पुं नैगम नय का एक भेद (विसे) ।
 असगिअ पुं [दे] १ अश्व, घोडा । २ वि. अनवस्थित, चञ्चल (दे १, ५५) ।
 असंघयण वि [असहनन] सहनन से रहित । २ वज्र, अयभ, नाराच आदि प्राथमिक तीन सघयणो से रहित (निचू २०) ।
 असंजण न [असञ्जन] नि ज्ञता, अनासक्ति (निचू १) ।
 असजम वि [असयम] १ हिंसा, भूठ आदि सावय अनुष्ठान (सूत्र १, १३) । २ हिंसा आदि पाप-कार्यों से अनिवृत्ति (धर्म ३) । ३ अज्ञान (आचा) । ४ असमाधि (वव १) ।
 असजय वि [असयत] १ हिंसा आदि पाप कार्यों से अनिवृत्त (सूत्र १, १०) । २ हिंसा आदि करने वाला (अण ६, ३) । ३ पु. साधु-मित्र, गृहस्थ (आचा) ।
 असजल पु [असंज्वल] १ ऐरवत वर्ष के एक जिनदेव का नाम (सम १५३) ।
 असजोगि वि [असयोगिन्] १ सयोग-रहित । २ पु. उक्त जीव, मुक्तात्मा (ठा २, १) ।
 असत वक्र [असा] १ अविद्यमान (नव ३३) । २ भूठ-सत्य (परह १, २) । ३ अनुदर त्वाह (परह २, २) ।
 असत देतो अस = आ ।
 असत वि [अशान्त] गन्तरहित, क्रुद्ध (परह २, २) ।

असथरमाण वक्र [दे असस्तरमाण] देखो असथरत (वव ४, श्लोक १८१) ।
 असधिम वि [असंधिम] सधान रहित, अखण्ड (बृह ५) ।
 असभंत पु [असभ्रान्त] प्रथम नरक का छठवां नरकेन्द्रक—नरक-स्थान विशेष (देवेन्द्र ४) ।
 असभव्व वि [असभाव्य] जिसकी सभावना न हो सके ऐसा (आ १२) ।
 असभावणीय वि [असभावनीय] ऊपर देखो (महा) ।
 असलप्य वि [असलप्य] अनिर्वचनीय (अणु) ।
 असलोय पु [असंलोक] १ अप्रकाश । २ वह स्थान जिसमें लोगो का गमनागमन न हो, भोडरहित स्थान (आचा) ।
 असवर पु [असंवर] आश्रय, सवर का अभाव (ठा ५, २) ।
 असवरीय वि [असंवृत] १ अनाच्छादित । २ नही ढका हुआ (कुमा) ।
 असवुड वि [असवृत] असयत, पाप कर्म से अनिवृत्त (सूत्र १, १, ३) ।
 अससइय वि [असशयित] असदिग्ध (सूत्र २, २) ।
 अससट्ट वि [असंसुष्ट] १ दूसरे से न मिला हुआ (बृह २) । २ लेप-रहित (श्रौप) । ३ स्त्री पिण्डैषणा का एक भेद (वव ६६) ।
 अससत्त वि [अससक्त] १ अमिलित (उत्त २) । २ अनासक्त (वस ८, उत्त ३) ।
 अससय वि [असशय] १ शशय-रहित (बृह

असगाह } पु [असद्ग्रह] १ कदाग्रह (अप असग्गाह } ६७२, सुपा १३४) । २ अति-असग्गाह } निर्वन्ध, विशेष आग्रह (भवि) ।
 असच्च न [असत्य] १ भूठ वचन (प्राप् १५१) । २ वि भूठा (परह १, २) । ३ मोस न [मृप] भूठ से मिला हुआ सत्य (द्र २२) । ४ वाइ वि [वादिन्] भूठ बोलने वाला (सम ५०, पचम ११, ३४) । ५ मोस न [मृप] न सत्य और न भूठ ऐसा वचन (आचा) । ६ मोसा स्त्री [मृपा] देखो अनन्तरोक्त अर्थ (पच १) । ७ सध वि [सध] १ असत्य-प्रतिज्ञ । २ असत्य गगिप्राय वाला (महा-परह १, २) ।
 असञ्ज } वक्र [असजत्] सम न असञ्जमाण } करता हुआ (आचा, उत्त १४) ।
 असञ्जाइय वि [अस्वाध्यायिक] पठन-पाठन का प्रतिबन्धक कारण (पव २६८) ।
 असञ्जाय पु [अस्वाध्याय] अनध्याय, वह काल जिसमें पठन-पाठन का नियम किया गया है (गच्छ ३, ३०) ।
 असड्ड वि [अश्रद्ध] अद्वारहित (कुमा) ।
 असड वि [अशठ] सरल, निष्कपट (सुपा ५५०) । २ करण वि [करण] निष्कपट भाव से अनुष्ठान करने वाला (बृह ६) ।
 असण न [अशन] १ भोजन, खाना (निचू ११) । २ जो खाया जाय वह, खाद्य पदार्थ (पव ४) ।
 असण पु [असन] १ बीजक नामक वृक्ष (परह १, साया १, १, श्रौप-पात्र, कुमा) । २ न. शेषणा, फेंकना (विसे २७६५) ।

अवग पुन [दे अवक] जल मे होने वाली वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८)।
 अवगइ श्री [अपगति] १ खराब गति । २ गोपनीय स्थान (मुपा ३४५)।
 अवगड न [अवगण्ड] १ सुवर्ण । २ पानी का फेन (सूत्र १, ६)।
 अवगतञ्च देवो अवगम = अवगम ।
 अवगच्छ सक [अव + गम्] जानना । अवगच्छइ (महा) । अवगच्छे (स १५२)।
 अवगच्छु अक [अप + गम्] दूर होना, निराल जाता । अवगच्छइ (महा)।
 अवगण } मक [अव + गणय्] अनादर
 अवगण्ण } कर्मा, तिरस्कारना । वक्तु अव-
 गणत (श्रा २७) । सक अवगण्णय
 (श्रा १०५)।
 अवगण्णा श्री [अवगणना] अवज्ञा, अनादर
 (दे १, २७)।
 अवगणिय } नि [अवगणित] अवज्ञात,
 अवगणिय } तिरस्कृत (दे, जीव १)।
 अवगद वि [दे] विस्तीर्ण, विराल (दे १, ३०)।
 अवगन्न देवो अवगण । अवगन्नइ (भवि) ।
 नइ अवगन्निवि (भवि)।
 अवगन्निव देवो अवगणिय (मुपा ४२१,
 नरि)।
 अवगम पु [अपगम] १ अपकरण (मुपा ३०२) । २ विनाश (स १५३, विसे ११८२)।
 अवगम मक [अव + गम्] १ जानना । २
 निष्पन्न करना । सक अवगमित्तु (सार्ध
 ६३) । व अवगतञ्च (स ५२६)।
 अवगम पु [अवगम] १ ज्ञान । २ निर्णय,
 निश्चय (निर १८०)।
 अवगमन न [अवगमन] ऊपर देखो (स
 ६३०, विसे १८६, ५०१)।
 अवगमिज् } नि [अवगत] १ ज्ञान, विदित
 अवगमिज् } (मुपा २१८) । २ निश्चित, अव-
 कल्पित (दे २, २३, न १५०)।
 अवगत नि [अपगत] पुनरा दृष्टा, फिर
 (श्रा १, १, दम १०, १६)।
 अवगत मक [अप + क्त] अवकाश करना,
 घात करना । अवगतइ (स ६३६)।

अवगारिस देखो अवकारिस विसे (१५८३)।
 अवगल वि [दे] आक्रान्त (षट्)।
 अवगल्ल वि [अवगल्लान] वीमार (ठा २, ५)।
 अवगहण न [अवग्रहण] निश्चय, अवधारण
 (पव २७३)।
 अवगाढ देखो ओगाढ (ठा १, भग, स १७२)।
 अवगाढु वि [अवगाहित] अवगाहन करने
 वाला (विसे २८२२)।
 अवगार पु [अपकार] अपकार, अहित-करण
 (सुर २, ४३)।
 अवगारय वि [अपकारक] अपकार-कारक
 (स ६६०)।
 अवगारि वि [अपकारिन्] ऊपर देखो (स
 ६६०)।
 अवगास पु [अवकाश] १ फुरसत (महा) ।
 २ जगह, स्थान (श्रावम) । ३ अवस्थान, अव-
 स्थिति (ठा ४, ३)।
 अवगाह सक [अव + गाह्] अवगाहन
 करना । अवगाहइ (सरा)।
 अवगाह पु [अवगाह] १ अवगाहन । २
 अवकाश (उत्त २८)।
 अवगाहण न [अवगाहन] अवगाहन, 'तित्था-
 वगाहणत्थं प्रागतव्व तए तत्थ' (मुपा ५६३)।
 अवगाहणा देखो ओगाहणा (ठा ४, ३, विसे
 २०८८)।
 अवगिचण न [दे अववेचन] वृथकरण (उप
 वृ ६६)।
 अवगिञ्ज देखो ओगिञ्ज । सक अव-
 गिञ्जिभ्य (कप्प)।
 अवगीय वि [अवगीत] निश्चित (उप वृ
 १८१)।
 अवगुठण देखो अवउठण (दे १, ६)।
 अवगुठिय वि [अवगुठित] आच्छादित
 (महा)।
 अवगुण पु [अवगुण] दुष्ट, दोष (हि ४,
 ३६५)।
 अवगुण सक [अव + गुणय्] खोलना,
 उद्घाटन करना । अवगुणेजा (श्रा २, २,
 २, ४) । अवगुणति (भग १५)।
 अवगुह नि [अवगुह] १ आलिंगित (हं २,
 १६८) । २ व्याप्त (श्राया १, ८)।
 अवगुह न [दे] ध्यलोक, अपराव (दे १, २०)।

अवगूहण न [अवगूहन] आलिंगन (सुर १४,
 २२०, पउम ७४, २४)।
 अवगूहाविय वि [अवगूहित] आश्लेषित
 (स ६६६)।
 अवग्ग वि [अव्यक्त] १ अस्पष्ट । २ पु-
 ग्रगीतार्थ, शास्त्रानभिज्ञ साधु (उप ८७४)।
 अवग्गह देखो उग्गह (पव ३०)।
 अवग्गहण न [अवग्रहण] देखो उग्गह (विसे
 १८०)।
 अवच देखो अवच = अवच (भग)।
 अवचइय वि [अपचयिक] अपकर्षप्राप्त,
 ह्रासवाला (श्रा ८)।
 अवचय पु [अपचय] ह्रास, अपकर्ष (भग
 ११, ११, स २८२)।
 अवचय पु [अवचय] इकट्ठा करना (कुमा)।
 अवचयण न [अवचयन] ऊपर देखो (दे ३,
 ५६)।
 अवचि अक [अप + चि] हीन होना, कम
 जाना । अवचिजइ (भग) । अवचिजति (भग
 २५, २)।
 अवचि } सक [अव+चि] इकट्ठा करना
 अवचिण } (फूल आदि को वृक्ष से तोड़
 कर) । अवचिणइ (नाट) । भवि अवचिणिस्स
 (पि ५३१) । हेक्क अवचिणेहु (शौ) (पि
 ८०२)।
 अवचिय वि [अवचित] हीन, ह्रासप्राप्त
 (विसे ८६७)।
 अवचिय वि [अपचित] इकट्ठा किया हुआ
 (पाथ)।
 अवचुणिय वि [अवचूर्णित] तोड़ा हुआ,
 चूर-चूर किया हुआ (महा)।
 अवचुल पु [अवचुल] चूल्हे का पीछला भाग
 (पिडमा ३४)।
 अवचूल देखो ओऊल (श्राया १, १६, पत्र
 २१६)।
 अवञ्च वि [अवाच्य] १ बोलने के अयोग्य ।
 २ बोलने के अशक्य (वर्मस ६६८)।
 अवञ्च न [अपत्य] सतान, वचा (कप्प, श्राव
 १, प्रासु ८२)। व वि [वत्] सतान-
 वाला (मुपा १०६)।
 अवञ्जिज् देखो अवञ्जीय (सूअनि २०५)।

[पत्त] (से ३, ४२)। °हर वि [°घर] तलवार-धारक, घोड़ा (से ६, १८)। °हारा देखो °धारा (उव)।
 असिइ (अप) देखो असीइ (सए)।
 असिण न [अशन] भोजन, खाना, 'अग-पिंड परिट्टुविज्जमाण पेहाए, पुरा असिणा इवा अन्नहारा इवा' (आचा २, १, ५, १)।
 असित्थ न [असिक्थ] आटा लगे हुए हाथ या बर्तन का कपडे से छना हुआ धोवन (पडि)।
 असिद्ध वि [असिद्ध] १ अनिष्पन्न। २ तर्क-शास्त्र प्रसिद्ध दुष्ट हेतु (विसे २८२४)।
 असिय वि [अशित] भुक्त, खादित (पाम्र, सुपा २१२)।
 असिय वि [असित्त] १ कृष्ण, श्वेतरहित (पाम्र)। २ अशुभ (विसे)। ३ अन्न, अन्न-यन्त्रित (सूत्र १, २, १), सिंया एगे अणु-गच्छति, असिया एगे अणुगच्छति' (आचा)।
 °क्ख पु [°क्ख] यक्ष-विशेष (सए)।
 असिय न [दे] दात्र, दांती (दे १, १४)।
 असियन्व देखो अस = अश्र।
 असिलेसा ली [अदलोषा] नक्षत्र-विशेष (सम ११)।
 असिलोग पु [अश्लोक] अकीर्ति, अजस (सम १२)।
 असिच न [अशिच] १ विनाश। २ असुख। ३ देवतादि कृत उपद्रव (श्रोच ७)। ४ मारी रोग (वव ४)।
 असिविण पु [अस्वप्न] देव, देवता (ग्रामा)।
 असिन्व देखो असिच (वव ७, प्राप्र)।
 असिसुई ली [अशिम्भी] शिशुरहित ली (प्राऊ २८)।
 असिह वि [अशिच] शिखारहित (वव ४)।
 असीइ ली [अशीति] संख्या-विशेष, अस्ती, ८० (सम ८८)। °म वि [°तम] अस्तीर्वा, ८० वाँ (पउम ८०, ७४)।
 असीइग वि [अशीतिक] अस्ती चर्प की उम्र वाला (तदु १७)।
 असीम वि [असीमन्] निस्सीम, 'असीमत्-मत्तिराएण' (उप ७२८ टी)।

असील वि [अशील] १ दु शील, असदा-चारी (परह १, २)। २ न असदाचार, अन्नहार्च्य। °मत वि [°वत्] १ अन्नहार्चारी (श्रोच ७७७)। २ असयत (सूत्र १, ७)।
 असु पु व [असु] १ प्राण (स ३८३)। २ न चित्त। ३ ताप (प्राप्र, वृप ५१)।
 असु देखो असु (प्राप्र)।
 असुइ वि [अशुचि] १ अपवित्र, अस्वच्छ, मलिन (श्रौप, वव ३)। २ न अमेच्य, विष्ठा (ठा ६, प्रासु १६६)।
 असुइ वि [अश्रुति] शास्त्रअवयण-रहित (भग ७, ६)।
 असुईकय वि [अशुचीकृत] अपवित्र किया हुआ (उप ७२८ टी)।
 असुग पु [असुक] देखो असु = असु (हे १, १७७)।
 असुज्झत वि [अहृश्यमान] नहीं दिखाता हुआ, 'अन्नपि ज असुज्झत। भुजतएण रत्ति' (पउम १०३, २५)।
 असुणि वि [अश्रोत्] न सुननेवाला, 'अलि-यपयपिरे अणिमित्तकोवणे असुणि सुणसु मह वयण' (वजा ७२)।
 असुद्ध वि [अशुद्ध] १ अस्वच्छ, मलिन। २ न मैला, अशुचि। °विसोहय पु [°विशो-धक] मगी, मेहतर (सुर १६, १६५)।
 असुभ देखो असुह = अशुभ (सम ६७, भग)।
 असुय वि [अश्रुत] न सुना हुआ (ठा ४, ४)। °णिसिसय न [°निश्रित] शास्त्र-अवयण के बिना ही होनेवाली बुद्धि—ज्ञान (एदि)।
 °पुच्च वि [°पूर्व] पहले कभी नहीं सुना हुआ (महा, णाया १, १, पउम ६५, १४)।
 असुय वि [असुत] पुत्ररहित (उत्त २)।
 असुर पु [असुर] १ दैत्य, दानव (पाम्र)। २ देवजाति-विशेष, भवनपति और च्यन्तर देवों की जाति (परह १, ४)। ३ दास-स्थानीय देव (आउ ३६)। °कुमार पु [°कुमार] भवनपति देवों की एक अवान्तर जाति (ठा १, १, महा)। °राय पु [°राज] असुरों का इन्द्र (पि ४००)। °वदि पु [°वन्दिन्] राक्षस (से ६, ५०)।
 असुरिद पु [असुरेन्द्र] असुरों का राजा, इन्द्र-विशेष (णाय १, ८, सुपा ७७)।

असुह न [अशुभ] १ अमंगल, अनिष्ट (सुर ४, १६३)। २ पाप-कर्म (ठा ४, ४)। ३ वि खराब, असुन्दर (जीव १, कुमा)।
 °णाम न [°नामच] अशुभ फल देनेवाला कर्म-विशेष (सम ६७)।
 असुइ न [असुख] दुःख (ठा ३, ३)।
 असूअ सक [असूय] असूया करना। असू-एहि (मै ७)।
 असूया ली [असूचा] १ सूचना का अभाव। २ दूसरे के दोषों को न कह कर अपना ही दोष कहना (निचू १०)।
 असूया ली [असूया] असूया, असहिष्णुता (वस)।
 असुरिय वि [असूर्य] १ सूर्यरहित, अन्व-कारमय स्थान। २ पु नरक स्थान (सूत्र १, ५, १)।
 असेच्च देखो असिच (प्राप्र)।
 असेच्च वि [असेच्य] सेवा के अयोग्य (गउड)।
 असेस वि [अशेष] नि शेष, सर्व (प्राप्र)।
 असोअ पु [अशोक] १ देव-विशेष (राय असोअ १)। २ पुन एक देवविमान (देवेन्द्र १४२)। ३ शक्र आदि इन्द्रों का एक आभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३)। °वडिसय पुन [°वतसक] सौवर्म देवलोक का एक विमान (राय ५६)।
 असोग पु [अशोक] १ सुप्रसिद्ध वृक्ष-विशेष (श्रौप)। २ महाप्रह-विशेष (ठा २, ३)। हरा रग (राय)। ४ भगवान् मल्लिनाथ का चैत्य-वृक्ष (सम १५२)। ५ देव-विशेष (जीव ३)। ६ न तीर्थ-विशेष (ती १०)। ७ यक्ष-विशेष (विपा १, ३)। ८ वि शोक रहित। °चद पु [°चन्द्र] १ राजा श्रेणिक का पुन, राजा कोरिणक (आवम)। २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (सार्ध ७७)। °लल्लिय पु [°लल्लित] चतुर्थ बलदेव का पूर्व-जन्मीय नाम (सम १५३)। °वण न [°वन] अशोक वृक्षों वाला वन (भग)। °वणिया ली [°वणिका] अशोक वृक्ष वाला वणोचा (णाय १, १६)। °सिरि पु [°श्री] इस नाम का एक प्रख्यात राजा, मन्नाट अशोक (विसे ८६२)।

अणमिय वि [अवनत] अवनत (सुपा १२६) ।

अणमिय वि [अवनमित] नीचे किया हुआ, नमाया हुआ (सुर २, ४१) ।

अणय वि [अवनत] नमा हुआ (वस ५) ।

अणय पु [अपनय] १ अपनय, हटाना (ठा ८) । २ निन्दा (पव १४०, विने १४०३ टी) ।

अणयण न [अपनयण] हटाना, दूर करना (सुपा ११, स ४८३, जप ४९६) ।

अणाम पु [अवनाम] ऊर्ध्वं गमन, ऊंचा जाना, 'सुलाए एणामावणामव' (धर्मस २४२) ।

अणि स्त्री [अनि] पृथिवी, भूमि (जप ३३६ टी) ।

अणित देखो अणी = अण + नी ।

अणित पु [अणीन्द्र] राजा, भूप (भवि) ।

अणिय देखो अणीय, 'त कुणसु वित्तिनियमणमवणियनेसदोसमल' (विने १३८) ।

अणी देखो अणि (सुपा ३१०) । १ सर पु [१२२] राजा, भूमिपति (भवि) ।

अणी मक [अण + नी] दूर करना, हटाना ।

अणोद, अणोमि (महा) । वक्र अवणित, अणोत (निचू १, सुर २, ८) । कवक अणोज्जत (जप १४६ टी) । क अवणेअ (द्र ३७) ।

अणीय वि [अणीत] दूर किया हुआ (सुपा ५४) ।

अणीयण न [अणीतवचन] निन्दा-वचन (आचा २, ४, १, १) ।

अणेन देखो अणी = अण + नी ।

अणोप पु [अणोद] अपनयन, हटाना (निं ६८२) ।

अणोण न [अणोदन] अपनयन, दूरी करण (न ६२१) ।

अणय वि [अणी] १ वरारहित, रूपरहित (ना) । २ पु निन्दा (पव ४) । ३ अपवर्ति (मा १८४ मा) । ४ वि [१३३] निन्दक, 'नेन पणयण वाने महामोह पकुप्प' (सम ५१) । ५ पु [१३३] निन्दा (द्र २६) ।

अणय न [३] धरना, निरादर (दे १, १५) ।

अणया स्त्री [अणया] निरादर, निरम्कार (न ६) ।

अणहअ पु [अणहव] अपलाप (वड) ।

अणहवण न [अणहवन] अपलाप (आचा) ।

अणहण न [अवस्नान] साबुन आदि से स्नान करना (एया १, १३, विपा १, १) ।

अवतस देखो अवयस = अवनत (कुमा) ।

अवतस पु [अवतस] मेखपर्वत (सुज ६) ।

अवतसिय वि [अवतसित] विभूषित (कुमा) ।

अवतट्ट वि [अवतट्ट] तनुकृत, छिला हुआ (सूअ १, ५, २) ।

अवतट्टि देखो अवयट्टि = अवनतट्टि (सूअ १, ७) ।

अवतारण न [अवतारण] १ उतारना । २ योजना करना (विसे ६४०) ।

अवतासन न [अवत्रासन] डराना (पव ७३ टी) ।

अवतिरथ न [अपतीर्थ] कुत्सित घाट, खराब किनारा (सुपा १५) ।

अवत्त वि [अव्यक्त] १ अस्पष्ट (विने) । २ कम उमर वाला (वृह १) । ३ असंस्कृत (गच्छ १) । ४ पु देखो अवग्ग (निचू २) ।

अवत्त वि [अवात] पवनरहित (गच्छ १) ।

अवत्त वि [अवाप्त] प्राप्त, लब्ध ।

अवत्त न [अवत्त] आमन विशेष (निचू १) ।

अवत्तय वि [दे] विसंस्थूल, अव्यवस्थित (दे १, ३४) ।

अवत्तव्व वि [अवत्तव्व] १ वचन से कहने के अशक्य, अनिर्वचनीय । २ सप्तभोग का चतुर्थ भग,

'अथतरभूएहि अ नियएहि दोहि समयमाईहि । वयणविसैसाईअ दव्वमव्वत्तय पडइ' (सम्म ३६) ।

अवत्तिय न [अव्यक्तिक] १ एक जैनाभास मत, निद्वयप्रचालित एक मत । २ वि इस मत का अनुयायी (ठा ७) ।

अवत्थतर न [अवस्थान्तर] जुदी दशा, मित्त अवस्था (सुर ३, २०६) ।

अवत्थग वि [अपार्थक] १ निरर्थक, व्यर्थ । २ असम्बद्ध अर्थवाला (सून वगैरह) (विसे) ।

अवत्थद्व वि [अवत्थद्व] अवलम्बन-प्राप्त, जिसको महारा मिला हो वह (एया १, १८) ।

अवत्थय वि [अपार्थक] निरर्थक (विसे ६६६ टी) ।

अवत्थरा स्त्री [दे] पाद-प्रहार, लात मारना (दे १, २२) ।

अवत्था स्त्री [अवस्था] दशा, अवस्थिति (ठा ८, कुमा) ।

अवत्थाण न [अवस्थान] अवस्थिति (ठा ४, १; स ६२७, महा, सुर १, २) ।

अवत्थाव सक [अव + स्थापय] १ स्थिर करना, ठहराना । २ व्यवस्थित करना । हेक्क, अवत्थाविदु, अवत्थावइदु (शौ) (पि ५७३, नाट) ।

अवत्थाविद (शौ) वि [अवस्थापित] अवस्थित किया हुआ (नाट) ।

अवत्थिय देखो अवत्थिय (महा, स २७४) ।

अवत्थिय वि [अवत्थुत] फेलाया हुआ, प्रसारित (एया १, ८) ।

अवत्थु न [अवत्थु] १ अभाव, असत्त्व (भवि, आवम) । २ वि निरर्थक, निष्फल (परह १, २) ।

अवथभ देखो अवठभ । सक्र अवथमिय (चेइय ४८१) ।

अवदग्ग देखो अवयग्ग (सूअ २, २, ५) ।

अवदळ वि [अपदळ] १ नि सार, सार-रहित । २ कच्चा, अपक्व (ठा ४, ४) ।

अवदहण न [अवदहन] दम्भन, गरम लोहे के कोश आदि से चर्म (फोडे आदि) पर दागना (एया १, ४) ।

अवदाण न [अवदान] शुद्ध कर्म (ती १५) ।

अवदाय वि [अवदात] १ पवित्र, निर्मल, 'विणयकरावदाय भत्त पेहित्तु चक्खुरा सम्म' (सुपा ४९१) । २ श्वेत, सफेद (परह १, ४, पात्र) ।

अवदार न [अपहार] १ छोटी खिडकी । २ गुप्त द्वार (जप ६६१) ।

अवदाल सक [अव + दलय] खोलना । अवदालेइ (श्रीप) । सक्र अवदालेत्ता (श्रीप) ।

अवदालिय वि [अवदलित] विकसित, विजृम्भित, 'अवदालियपुडरीयनयणे' (श्रीप, परह १, ४, उवा) ।

अवदिसा स्त्री [अपदिक्] आन्त दिशा (स ८२६) ।

अवदेस देखो अवएस (अभि ७६) ।

अस्सोत्थ देखो अस्सत्थ (पि ७४, १५२, ३०६) ।

अस्सोयच्च वि [अश्रोतव्य] सुनने के अयोग्य (सुर १४, २) ।

अह अ [अथ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ अथ, वाद (स्वप्न ४३, द ३१, कुमा) ।
२ अथवा, और,

'छिन्नज सीस अह होउ वधए चयउ

सबहा लच्छी ।

पडिबलपालणे सुपुरिमाण ज होइ त होउ ।।'
(प्रासू ३) ।

३ मंगल (कुमा) । ४ प्रश्न । ५ समुच्चय । ६ प्रतिवचन, उत्तर (बृह १) । ७ विशेष (ठा ७) । ८ यथार्थता, वास्तविकता (विसे १२७६) । ९ पूर्वपक्ष (विसे १७८३) । १०-११ वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए और पाद-पूर्ति में भी इसका प्रयोग होता है (सूत्र १, ७, पचा १६) ।

अह न [अहन्] दिना, दि (आ १४, पात्र) ।

अह अ [अधस्] नीचे (सुर २, ३८) ।

लोग पु [लोक] पाताल-लोक (सुपा ४०) ।

स्थ वि [स्थ] नीचे रहा हुआ, निम्न-स्थित (पउम १०२, ६५) ।

अह स [अदस्] यह, वह (पात्र) ।

अह न [दे] दु ख (दे १, ६) ।

अह न [अघ] पाप (पात्र) ।

अह देखो अहा (हे १, २४५, कुमा) । क्रम, क्रमसो अ [क्रम] क्रम के अनुसार, अनुक्रम से (श्लो ५ भा; स ६) । कखाय, खाय न [ख्यात] निर्दोष चारित्र्य, परिपूर्ण समय (ठा ५, २, नव २६, कुमा) । कखायसजय वि [ख्यातसयत] परिपूर्ण समय वाला (भग २५, ७) । छद देखो अहाछद (स ६) । स्थ वि [स्थ] ठीक-ठीक रहा हुआ, यथास्थित (ठा ५, ३) । स्थ वि [स्थ] वास्तविक (ठा ५, ३) । पहाण अ [प्रधान] प्रधान के हिसाब से (भग १५) । अहइ अ [अथकिम्] स्वीकार-सूचक अव्यय—हाँ, अच्छा (नाट, प्रयो ५) ।

अहकार पु [अहकार] अभिमान, गर्व (सूत्र १, ६, स्वप्न ८२) ।

अहकारि वि [अहकारिन्] अभिमानी, गर्विष्ठ (गड) ।

अहणिस न [अहर्निश] रात-दिन, सवंधा (पिंग) ।

अहकम्म देखो अहेकम्म (पिंड १३६) ।

अहण वि [अधन] निर्धन, धनरहित (विसे २८१२) ।

अहणिस न [अहर्निश] रात-दिन, निरन्तर (नाट) ।

अहत्ता अ [अधस्तात्] नीचे (भग) ।

अहन्न वि [अधन्य] अप्रशस्त्य, हतगाय्य (सुर २, ३७) ।

अहन्निस देखो अहणिस (सुपा ४६२) ।

अहम वि [अधम] अधम, नीच (कुमा) ।

अहमति वि [अहमन्तिन्] अभिमानी, गर्विष्ठ (ठा १०) ।

अहमहामआ } स्त्री [अहमहमिका] मैं
अहमहमिगया } इससे पहले ही जाऊँ ऐसी
अहमहमिगा } चेष्टा, अत्युत्कण्ठा (गा ५८०, सुपा ५४, १३२, १४८) ।

अहमिद पु [अहमिन्द्र] १ उत्तम-श्रेणीय पूर्ण स्वाधीन देवजाति विशेष, श्रेष्ठक और अनुत्तर विमान के निवासी देव (इक) । २ अपने को इन्द्र समझने वाला, गर्विष्ठ, 'सपद् पुण रायाणो नरिद । सब्बेवि अहमिदा' (सुर १, १२६) ।

अहम्म देखो अधम्म (सूत्र १, १, २, भग, नव ६, सुर २, ४४, सुपा २५८, प्रासू १३६) ।

अहम्म वि [अधर्म्य] धर्मच्युत, धर्मरहित, गैरव्याजवी (सण) ।

अहम्माणि वि [अहम्मानिन्] अभिमानी (आवम) ।

अहम्मि वि [अवर्मिन्] धर्म रहित, पापी (सुपा १७२) ।

अहम्मिट्ट देखो अधम्मिट्ट (भग १०, २, राय) ।

अहम्मिय वि [अधार्मिक] अधर्मी, पापी (विपा १, १) ।

अहय वि [अहत्त] १ अनुवद्ध, अव्यवच्छिन्न (ठा ८, पत्र ११८) । २ शकत, अखण्डित (सूत्र २, २) । ३ जो दूसरी तरफ लिया गया हो (चद १६) । ४ नया, नूतन (भग ८, ६) ।

अहर वि [दे] अशक्त, असमर्थ (दे १, १७) ।

अहर पु [अधर] १ होठ, श्रोत्र (एदि) । २ वि नीचे का, नीचला (परह १, ३) । ३ नीच, अधम (परह १, २) । ४ दूसरा, अन्य (प्रामा) । 'गइ स्त्री [गति] अधोगति, दुर्गति, नीच गति, 'अहरणइ निति कम्माइ' (पिंड) ।

अहरिय वि [अधरित] तिरस्कृत (सुपा ४७) ।

अहरी स्त्री [अधरी] पेषण-शिला, जिस पर मसाला बगैरह पीसा जाता है वह पत्थर, सिलवट (जवा) । 'लोट्ट पु [लोष्ट] जिससे पीसा जाता है वह पत्थर, लोढा (जवा) ।

अहरीकय वि [अधरीकृत] तिरस्कृत, अव-गणित (सुपा ४) ।

अहरीभूय वि [अधरीभूत] तिरस्कृत, 'उयरेण धरतीए, नररयणमिम महप्पह देवि । अहरीभूयमसेस, जयपि तुह रयणग्ग्ग्गाए' (सुपा ३५) ।

अहस्स पुन [अधरोष्ठ] नीचे का होठ (परह १, ३, हे १, ८४, पड्) ।

अहरेम देखो अहिरेम । अहरेमइ (हे ४, १६९) ।

अहरेमिअ वि [पूरित] पूरा किया हुआ (कुमा) ।

अहल वि [अफल] निष्फल, निरर्थक (प्रासू १३५, रभा) ।

अहलद न [यथालन्द] पाँच रात का समय (पव ७०) ।

अहलदि देखो अहालदि (पव ७०) ।

अहव देखो अहवा (हे १, ६७) ।

अहवइ (अप) देखो अहवा (कुमा) ।

अहवण } अ [अयवा] १ चान्कालकार ने
अहवा } प्रयुक्त किया जाता अव्यय (अण, सूत्र २, २) । २ या, अथवा (बृह १, निद्र १, पचा ३, हे १, ६७) ।

अहव्व देखो अभव्व (गा ३६०) ।

अहव्वग पु [अथर्वन्] चौथा वेद-शास्त्र (श्रौप) ।

अहव्वा स्त्री [दे] अनती, कुत्ता स्त्री (दे १, १८) ।

अहह अ [अहह] इन अर्थों का सूचक

अवमाणणा स्त्री [अवमानना] अवमाणणा
(काल) ।
अवमाणि वि [अवमानिन्] अवज्ञा करने
वाला (अभि ६६) ।
अवमाणिय वि [अपमानित] तिरस्कृत (सि
१०, ६६, सुपा १००) ।
अवमाणिय वि [अवमानित] १ अवज्ञात,
अनादृत (सुर २, १७६) । २ अप्रूरित, 'अव-
माणियदोहला' (भग ११, ११) ।
अवमार पु [अपस्मार] भयकर रोग विशेष,
पामलपन (आचा) ।
अवमारिय वि [अपस्मारित, 'रिक] अप-
स्मार रोग वाला (आचा) ।
अवमारु पु [अवमारुत] नीचे चलता पवन
(गड) ।
अवमिच्चु देखो अवमच्चु (प्राह) ।
अवमिय वि [दे] जिसको घाव हो गया हो
वह, ब्रणित (बृह ३) ।
अवमुक् वि [अवमुक्त] परित्यक्त (पि ५६६) ।
अवमह वि [अपमघ] मेघ-रहित (गड) ।
अवय देवो अपय = अण्ड (सूत्र १, ८, ११) ।
अवय न [अञ्ज] कमल, पद्म (परण १) ।
अवय वि [अवच] १ नीचा, अनुच (उत्त
३) । २ जघन्य, हीन, अश्रेष्ठ (सूत्र १, १०) ।
३ प्रतिभू (भग १, ६) ।
अवयस पु [अवतस] १ शिरोभूषण विशेष
(कुमा, गा १७३) । २ कान का आभूषण
(पाम) ।
अवयस सक [अवतसय्] भूषित करना ।
अवयसअति (पि १४२, ४६०) ।
अवयस्य सक [अप + ईक्ष्] अपेक्षा करना,
रा देना । अवयस्यह (णाय १, ६) ।
अवयस्यवन, अवयस्यमाण (णाय १,
६, भग १०, ०) ।
अवयस्य व [अव + ईक्ष्] १ देखना ।
२ नीचे से देना । वह अवयस्यत (श्रौध
१८८ भा) ।
अवयस्य स्त्री [अपेक्षा] अपेक्षा (णाय १,
६) ।
अवयस्य न [दे] मन्त्र, अवमान (भा १,
१) ।

अवयच्छ सक [अव + गम्] जानना । अव-
यच्छ (स ११३) । सक अवयच्छिय
(स २१०) ।
अवयच्छ सक [दृश्] देखना । अवयच्छ
(हे ४, १८१) । वह अवयच्छत (कुमा) ।
अवयच्छिय वि [दृष्ट] देखा हुआ (णाय १,
८) ।
अवयच्छिय वि [दे] प्रसारित, 'कु कारपव-
णपिसुणियमवयच्छियमयरमहा य' (स
११३) ।
अवयज्ज सक [दृश्] देखना । अवयज्ज
(हे ४, १८१) । सक अवयज्जऊण (कुमा) ।
अवयट्ठि स्त्री [अवतट्ठि] तट्टकरण, पतला
करना (आचा) ।
अवयट्ठि वि [अवस्थायिन्] अवस्थित करने
वाला, स्थिर रहने वाला (आचा) ।
अवयट्ठि स्त्री [अवकृष्टि] आकर्षण (आचा) ।
अवयट्ठिअ वि [दे] युद्ध में पकड़ा हुआ
(दे १, ४६) ।
अवयण न [अवचन] कुत्सित वचन, दूषित
भाषा (ठा ६) ।
अवयर सक [अव + वृ] १ नीचे उतरना ।
२ जन्म ग्रहण करना । अवयरइ (हे १,
१७२) । वह अवयरत, अवयरमाण
(पजम ८२, ६३, सुपा १८१) । सक अव-
यरिड (प्रास) ।
अवयरिअ पु [दे] वियोग, विरह (दे १,
३६) ।
अवयरिअ वि [अपकृत] १ जिसका अपकार
किया गया हो वह । २ न अपकार, अहित-
करण, 'को हेऊ तुह गमणे तुह अवयरिय मए
कि व' (सुपा ४२१) ।
अवयरिअ वि [अवतीर्ण] १ जन्मा हुआ ।
२ नीचे उतरा हुआ (सुर ६, १८६) ।
अवयव पु [अवयव] १ अण, विभाग । २
अनुमान-प्रयोग का वाक्यांश (दसनि १, हे १,
२४५) ।
अवयवि वि [अवयविन्] अवयव वाला (ठा
१, विने २३५०) ।
अवयाढ देखो ओगाढ (नाट, गड) ।
अवयाण न [दे] खींचने की डोरी, लगाम
(दे १, २४) ।

अवयाय पु [अववाय] अपराध, दोष (उप
१०३१ टी) ।
अवयाय वि [अवदात] निर्मल (सिरि
१०२७) ।
अवयार पु [अपकार] अहित-करण (स
४३७, कुमा, प्रासू ६) ।
अवयार पु [अवतार] १ उतरना । २ देहा-
न्तर-धारण, जन्म-ग्रहण । ३ मनुष्य रूप में
देवता का प्रकाशित होना, 'अज्ज । एव तुम
देवावयारो विय आगईए' (स ४१६, भवि) ।
४ सगति, योजना (विसे १००८) । ५ प्रवेश
(विसे १०४३) ।
अवयार पु [अवतार] समावेश (पव ८६) ।
अवयार पु [दे] माघ-पूर्णिमा का एक उत्सव,
जिसमें इक्ष से दत्तवन आदि किया जाता है
(दे १, ३२) ।
अवयारण न [अवतारण] उतारना (सिरि
१००४) ।
अवयारय देखो अवगारय (स ६६०) ।
अवयारि वि [अपकारिन्] अपकार करने
वाला (स १७६, विवे ७६) ।
अवयाल्लिय वि [अवचालित] चलायमान
किया हुआ (स ४२) ।
अवयास सक [अिष्] आलिंगन करना ।
अवयासइ (हे ४, १६०) । कवक अव-
यासिज्जमाण (श्रौध) । सक अवयासिय
(णाय १, २) ।
अवयास सक [अव + काश] प्रकट करना ।
सक अवयासेऊण (तदु) ।
अवयास देखो अवगास (गड, कुमा) ।
अवयास पु [अिष्] आलिंगन (श्रौध २४४
भा) ।
अवयासण न [अिलेपण] आलिंगन (बृह १) ।
अवयासाविय वि [अिलेपित] आलिंगन कराया
हुआ (विपा १, ४) ।
अवयासिय वि [अिष्] आलिंगित (कुमा,
पाम) ।
अवयासिणी स्त्री [दे] नासा-रज्जु, नाक में
डाली जाती डोरी (दे १, ४६) ।
अवर वि [अपर] अन्य, दूसरा, तद्विन्न (श्रा
२७, महा) । हा अ [था] अन्यथा (पचा
८) ।

अहिक्खेव पु [अधिक्खेप] १ तिरस्कार ।
२ स्थापन । ३ प्रेरणा (नाट) ।

अहिक्खिव देखो अहिक्खिव वक्क अहिक्खिवत्त
(स ५७) ।

अहिग देखो अहिय = अधिक (विसे १६४३
टी) ।

अहिखीर सक [दे] १ पकडना । २ आघात
करना । अहिखीरइ (भवि) ।

अहिगध वि [अधिगन्ध] अधिक गन्ध वाला
(गजड) ।

अहिगम सक [अधि + गम्] १ जानना ।
२ निर्णय करना । ३ प्राप्त करना । कृ
अहिगम्म (सम्म १६७) ।

अहिगम सक [अभि + गम्] १ सामने
जाना २ आदर करना । कृ अहिगम्म
(सण) ।

अहिगम पु [अधिगम] १ ज्ञान (विसे
१०८) ।

'जीवाईणमहिगमो मिच्छत्तस्स खओवसमभावे'
(अमम २) । २ उपलम्भ, प्राप्ति (दे ७, १४) ।
३ गुरु आदि का उपदेश (विसे २६७५) ।

ग, भक्ति (सम ५१) । ५ न गुरु आदि
देश से होनेवाली सद्धर्म-प्राप्ति—सम्य-
वृत्त (सुपा ६४८) । °रुहि स्त्री [°रुचि] १
रुचि का एक भेद । २ सम्यक्त्व वाला
(विसे ११६५) ।

देखो अहिगम (औप, से ८, ३३,
५५) ।

अहिगमण न [अधिगमन] १ ज्ञान । २
निर्णय । ३ प्राप्ति, उपलम्भ (विसे) ।

गमय वि [अधिगमक] जनानेवाला,
जानेवाला (विसे ५०३) ।

अहिगमय वि [अधिगत] १ ज्ञान । २
स्वित्त (सुट १, १८१) ।

अहिगमय देतो अहिगम = अधि + गम् ।
अहिगम देखो अहिगम = अभि + गम् ।
अहिगमय वि [अधिगत] १ प्रस्तुत (रयण
) । २ न प्रस्ताव, प्रसंग (दान) ।

अहिगमय वि [अधिगत] १ उपलब्ध, प्राप्त
(त १०) । २ ज्ञान (दे ६, १४८) । ३
निर्णय, शास्त्राभिज्ञ साधु (वव १) ।

अहिगमय वि [अधिगत] १ उपलब्ध, प्राप्त
(त १०) । २ ज्ञान (दे ६, १४८) । ३
निर्णय, शास्त्राभिज्ञ साधु (वव १) ।

अहिगरण पुन [अधिकरण] १ युद्ध, लडाई
(उप पृ २६८) । २ असमय, पाप-कर्म से
अनिवृत्ति (उप ८७२) । ३ आत्म-भिन्न वाह्य
वस्तु (ठा २, १) । ४ पाप जनक क्रिया
(एयाया १, ५) । ५ आघात (विसे ८४) ।
६ भेद, उपहार (बृह १) । ७ कलह, विवाद
(बृह १) । ८ हिंसा का उपकरण, 'मोहघेण
य रइयं हलज्जवल्लसुलसुलपपुहमहिगरण' (विसे
६१) । °कड, °कर वि [°कर] कलहकारक
(सूय १, २, २, आचा) । °किरिया स्त्री
[°क्रिया] पाप-जनक कृति, दुर्गति में ले
जानेवाली क्रिया (परह १, २) । °सिद्धत
पु [°सिद्धान्त] आनुपंगिक सिद्धि करनेवाला
सिद्धान्त (सूय १, १२) ।

अहिगरणी स्त्री [अधिकरणी] लोहार का
एक उपकरण (भग १६, १) । °खोडि स्त्री
[°खोटि] जिसपर अधिकरणी रखी जाती
है वह काष्ठ (भग १६, १) ।

अहिगरणिया स्त्री [अधिकरणिकी] देखो
अहिगरणीया स्त्री अहिगरण-किरिया (सम
१०, ठा २, १, नव १७) ।

अहिगरी [दे] अजगरिन, स्त्री अजगर (जीव
२) ।

अहिगार पु [अधिकार] १ वैभव, संपत्ति,
'नियमहिगारणुक्क जम्मणमहिम विहिस्सामो'
(सुपा ४१) । २ हक, सत्ता (सुपा ३५०) ।
३ प्रस्ताव, प्रसंग (विसे ४८७) । ४ ग्रन्थ-
विभाग (वसु) । ५ योग्यता, पात्रता (प्रासू
१३५) ।

अहिगारि स्त्री [अधिकारिन्] १ अमल-
अहिगारिय स्त्री दार, राज-नियुक्त सत्ताधीश,
'ता तप्पुराहिगारी समागमो तत्थ तम्मि जणे'
(सुपा ३५०, आ २७) । २ पात्र, योग्य (प्रासू
१३५, सण) ।

अहिगिक्ख अ [अधिकृत्य] अधिकार करके
(उवर ३६, ६६) ।

अहिघाय पु [अभिघात] आत्फालन, आघात
(गजड) ।

अहिच्छत्ता स्त्री [अहिच्छत्रा] नगरी-विशेष,
कुरुजगल देश की प्राचीन राजधानी (सिदि
७८) ।

अहिजाइ स्त्री [अभिजाति] कुलीनता (प्राप्र) ।

अहिजाण सक [अभि + झा] पहिचानना ।
भवि अहिजाणिस्सदि (शौ) (पि ५३५) ।
अहिजाय वि [अभिघात] कुलीन (भग ६,
३३) ।

अहिजुज देखो अभिजुज । सक अहिजुजिय
(भग) ।

अहिजुत्त देखो अभिजुत्त (प्रवो ८४) ।

अहिज्ज सक [अधि + इ] पढना, अभ्यास
करना । अहिज्जइ (अत २) । वक्क अहिज्जत्त,
अहिज्जमाण (उप १६६ टी, उवा) । सक
अहिज्जित्ता, अहित्ता (उत्त १, सूय १, १२)
हेक्क अहिज्जित्त (दस ४) ।

अहिज्ज वि [अधिज्य] वनस्प की डोरी पर
चढाया हुआ (बाण) (दे ७, ६२) ।

अहिज्ज स्त्री [अभिज्ञ] जानकार, निपुण
अहिज्जण (पि २६६, प्राक, दस) ।

अहिज्जण न [अध्ययन] पठन, अभ्यास (विसे
७ टी) ।

अहिज्जाण (शौ) देखो अहिज्जाण (प्राक ८७) ।
अहिज्जाणिय वि [अध्यापित] पाठित, पढाया
हुआ (उप पृ ३३) ।

अहिज्जिय वि [अधीत] पठित, अभ्यस्त (सुर
८, १२१, उप ५३० टी) ।

अहिज्जिय वि [अभिध्यत] लोभ-रहित,
अलुब्ध (भग ६, ३) ।

अहिट्ट सक [अधि + ट्टा] करना । अहिट्टण
(दस ६, ४, २) ।

अहिट्टण वि [अधिष्टक] अविद्याता, विधायक,
कारक,
'नासवीपलिअकेसु, न निसिज्जा न पीढए ।

निगमथापडिलेहाए, बुद्धवुत्तमहिट्टणा'
(दस ६, ५७) ।

अहिट्टण देखो अहिट्टण (पचा ७, ३३) ।

अहिट्टा सक [अधि + स्था] १ ऊपर चलना ।
२ आश्रय लेना । ३ रहना, निवास करना ।
४ शासन करना । ५ करना । ६ हराना । ७
आक्रमण करना । ८ ऊपर चढ बैठना । ९
वश करना । अहिट्टेइ (निचू ५), 'ता अहि-
ट्टेइ इम रज्ज' (म २०४) । अहिट्टेवा (पि
२५२, ४६६) । वक्क अहिट्टत्त (निचू ५) ।
कवक्क अहिट्टिज्जमाण (ठा ४, १) । सक-
अहिट्टेइत्ता (निचू १२) । हेक्क अहिट्टित्तए
(बृह ३) ।

अहिया स्त्री [अधिका] भगवान् श्रीनमिनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) ।
 अहियाइ देखो अहिजाइ (पङ्) ।
 अहियाय देखो अहिजाय (पात्र) ।
 अहियार पु [अभिचार] शत्रु के वध के लिए किया जाता मन्त्रादि-प्रयोग (गउड) ।
 अहियार देखो अहिगार (स ५४३, पात्र, मुद्रा २६६, सट्टि ७ टी, भवि, दे ७, ३२) ।
 अहियारि देखो अहिगारि (दे ६, १०८) ।
 अहियास सक [अधि + आस्, अधि + सह] सहन करना, कष्टों को शान्ति से भेलना । अहियामइ, अहियासए, अहियासेइ (उच, महा) । कर्म अहियासिज्जति (भग) । वक्क अहियासेमाण (आचा) । संक अहियासित्ता, अहियासेत्तु (सूअ १, ३, ४, आचा) हेक्क अहियासित्तए (आचा) । क अहियासियच्च (उप ५४३) ।
 अहियास वि [अध्यास, अधिसह] सहिष्णु (वृह १) ।
 अहियासन न [अध्यासन अधिसहन] सहन करना (उप ५३६, स १६२) ।
 अहियासन न [अधिकाशन] अधिक भोजन, अजीर्ण (ठा ६) ।
 अहियासिय वि [अध्यासित, अधिपोड] सहन किया हुआ (आचा) ।
 अहिर पु [आभीर] अहीर, गोवाला (गा ८११) ।
 अहिरम देखो अभिरम । वक्क अहिरमत (सपु १५४) ।
 अहिरम अक [अभि + रम्] क्रीडा करना, सभोग करना । अहिरमदि (शौ) (नाट) । हेक्क अभिरमित्तु (शौ) (नाट) ।
 अहिरम्म वि [अभिरम्य] सुन्दर, मनोहर (भवि) ।
 अहिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर (पात्र) ।
 अहिरामिण वि [अभिरामिन्] आनन्द देने वाला (सण) ।
 अहिराय पु [अधिराज] १ राजा (वृह ३) । २ स्वामी, पति (सण) ।
 अहिराय न [अधिराज्य] राज्य, प्रभुत्व (सट्टि ७) ।

अहिरिअ देखो अहिरिअ (पिंड ६३१) ।
 अहिरिअ वि [अहीक] निर्लज्ज, बेशरम (हे २, १०४) ।
 अहिरिअ वि [दे] निस्तेज, फीका (दे १, २७) ।
 अहिरिमाण वि [दे अहारिन्, अहीमनस्] १ अमनोहर, मन को प्रतिकूल । २ अलज्जकारक, 'एगयरे अन्नयरे अभिन्नाय तित्तिक्खमाणे परिच्चए, जे य हिरि, जे य अहिरिमाणा' (आचा १, ६, २) ।
 अहिरुव वि [अभिरुप] १ सुन्दर, मनोहर (अभि २११) । २ अरुण, योग्य विक्र ३८) ।
 अहिरेम सक [पु] पूरा करना, पूर्ति करना । अहिरेमड (हे ४, १६६) ।
 अहिरोइअ वि [दे] पूर्ण (पङ्) ।
 अहिरोहण न [अधिरोहण] ऊपर चढना, आरोहण (मा ४०) ।
 अहिरोहि वि [अधिरोहिन्] ऊपर चढने वाला (अभि १७०) ।
 अहिरोहिणी स्त्री [अधिरोहिणी] नि श्रेणी, सीढी (दे ८, २६) ।
 अहिल वि [अखिल] सकल, सब (गउड, रभा) ।
 अहिलख } सक [काड्ढ] चाहना, अभि-
 अहिलव } लाप करना । अहिलखइ, अहि-
 अहिलक्ख } लघइ (हे ४, १६२), 'अहिल-
 क्खति मुअति अ रइवावार विलासिणीहिअ-
 आइ' (से १०, ५७) ।
 अहिलक्ख वि [अभिलक्ष्य] अनुमान से जानने योग्य (गउड) ।
 अहिलव सक [अभि + लप्] सभापण करना, कहना । कवक्क अहिलप्पमाण (स ८४) ।
 अहिलस सक [अभि + लप्] अभिलाप करना, चाहना । अहिलमइ (महा) । वक्क अहिलसत (नाट) ।
 अहिलसिय वि [अभिलपित] वाञ्छित (सुर ४, २४८) ।
 अहिलसिर वि [अभिलापिन्] अभिलापी, इच्छुक (दे ६, ५८) ।
 अहिलान न [अभिलान] मुख का बन्वन विशेष (राया १, १७) ।

अहिलान पु [अभिलाप] शब्द, आवाज (ठा २, ३) ।
 अहिलस पु [अभिलाप] इच्छा, वाञ्छा, चाह (गउड) ।
 अहिलासि वि [अभिलापिन्] चाहनेवाला (नाट) ।
 अहिलिअ न [दे] १ पराभव । २ क्रोध, गुस्सा (दे १, १७) ।
 अहिलिह सक [अभि + लिख्] १ चिन्ता करना । २ लिखना । अहिलिहति (मुद्रा १०८) । संक, अहिलिहिअ (वेणी २५) ।
 अहिलोयण न [अभिलोकन] ऊँचा स्थान (परह २, ४) ।
 अहिलोल वि [अभिलोल] चपल, चञ्चल (गउड) ।
 अहिलोहिआ स्त्री [अभिलोभिका] लोलुपता, तृष्णा (से ३, ४७) ।
 अहिल वि [दे] धनवान्, धनी (दे १, १०) ।
 अहिल्लिया स्त्री [अहिल्या] एक सती स्त्री (परह १, ४) ।
 अहिव [अधिप] १ ऊपरी, मुखिया (उप ७२८ टी) । २ मालिक, स्वामी (गउड) । ३ राजा, भूप, 'दुद्धाहिवा दडपरा हवति' (गोय ८) ।
 अहिवइ वि [अधिपति] ऊपर देखो (राया १, ८, गउड, सुर ६, ६२) ।
 अहिवजु देखो अहिमजु (पङ्) ।
 अहिवदिय वि [अभिवन्दित] नमस्कृत (स ६४१) ।
 अहिवजु देखो अहिमजु (पङ्) ।
 अहिवड अक [अधि + पत्] क्षीण होना । वक्क 'एव निस्तारे माणुसतणे जीविअ अहिवडते' (तटु ३३) ।
 अहिवड सक [अधि + पत्] आना । वक्क अहिवडत (राज) ।
 अहिवड्ढ देखो अभिवड्ढ अहिवड्ढामो (कप्प) ।
 अहिवड्ढि } स्त्री [अभिघृद्धि] उत्तर प्रोष्ठ-
 अहिवड्ढि } पदा नक्षत्र का अभिघृता देवता (मुज १०, १२, ज ७—पत्र ४६८) ।
 अहिवड्ढिय वि [अभिर्वावत] वदाया हुआ (म २७७) ।

अनसं अ [अवश्यम्] जरूर, निश्चय (पि ३१५)।

अवस्तपिणी देखो अवसत्पिणी (सबोध ४८)।

अवस्ताअ देखो अवसाय (विक्र)।

अवस्तिसय वि [अवाश्रित] आश्रित, अवलग्न (अनु ६)।

अवह सक [रच्] निर्माण करना, बनाना। अवहइ (हे ४, ९४)।

अवह म [उभय] दोनों, युगल (हे २, १३८)।

अवह नि [अवह] न बहता हुआ, जो चालू नहीं है, वद, 'श्रीमत्पिणीइ अवहो इमाइ जाओ तस्मा य निद्विपहो (धर्मनि १५१)।

अवहड श्री [अपहति] विनाश (विसे २०-१०)।

अवहट्ट नि [दे] अभिमानी, गर्वित (दे १, २३)।

अवहट्टु देनो अवहर = अप + ह।

अवहड नि [अपहृत] ले लिया गया, छोना हुआ (गुग २६६, पणह १, ३)।

अवहड नि [अवहृत] ऊपर देखो (प्राह)।

अवहड न [दे] मुगल (दे १, ३२)।

अवहण्ण पु [दे] उखन, शीकल, उदूखल (दे १, २६)।

अवहत्थ पु [अपहस्त] मारने के लिए या नितान गहर करने के लिए ऊंचा किया हुआ हाथ 'अवहत्थेण हम्मो कुमरो' (महा)।

अवहत्थ ना [अपहस्त्य] १ हाथ को ऊंचा करना। २ त्याग करना, छोड़ देना। अहत्थेण (महा)। सट्ट अवहत्थिऊण, अहत्थेऊण (पि ५=६, महा)।

अवहत्थया श्री [दे] नात मारना, पाद-प्रहार (दे १, २०)।

अवहत्थिय नि [अपहस्तिन] परित्याग, दूर भिदा हुआ (ना नाप्र ५०८, गा ३५३, गा १९३ एरि)।

अवहत्थि नि [अपहत्त] नट नाच-प्राप्त (ने १८, २=१)।

अवहत्थि नि [अपहत्त] अशिर (प्रोध ३०१)।

अवहत्थि नि [अपहत्त] अशिर (प्रोध ३०१)।

अवहर सक [गम्] जाना। अवहरइ (हे ४, १६२)।

अवहर अक [नश्] भाग जाना, पलायन करना। अवहरइ (हे ४, १७८, कुमा)।

अवहर सक [अप + ह्] १ छोड़ लेना, अप-हरण करना। २ भागाकार करना, भाग देना। अवहरइ (महा) अवहरेजा (उवा)।

कवक अवहरिऊण, अवहीरमाण (सुर ३, १४२, भग २५, ४, एया १, १८)।

सक अवहरिऊण, अवहट्टु (महा, आचा, भग)।

अवहर सक [अप + ह्] परित्याग करना। सक अवहट्टु (सूअ १, ४, १, १७)।

अवहर वि [अपहर] अपहारक, छोड़ लेने-वाला (गा १५६)।

अवहरण न [अपहरण] छोड़ लेना (कुमा, सुपा २५०)।

अवहरिअ वि [गत] गया हुआ (कुमा)।

अवहरिअ वि [अपहृत] छोड़ लिया हुआ (सुर ३, १४१, कुम्मा ६)।

अवहस सक [अव, अप + हस्] चुच्छ करना, तिरस्कार करना, उपहास करना। अव-हसइ (एया १, १८)।

अवहसिय वि [अप, अवहसित] तिरस्कृत, उपहसित (एया १, ८, सुर १२, ६७)।

अवहाउ सक [दे] आक्रोश करना। अवहाडेमि (दे १, ४७ टी)।

अवहाडिअ वि [दे] उदकपु, जिस पर आक्रोश किया गया हो वह (दे १, ४७)।

अवहाण न [अवधान] १ ध्याल, उपयोग (सुर १०, ७१, कुमा)। २ ज्ञान, जानना (वसे ८२)।

अवहाय पु [दे] विरह, वियोग (दे १, ३६)।

अवहाय अ [अपहाय] छोड़ कर, त्याग कर (भग १०)।

अवहार सक [अव + वारय्] निर्णय करना, निश्चय करना। कम अवहारिऊण (स १६६)। हेऊ अनहारेउ (भास १६)।

अवहार (अप) देखो अवहर = अप + ह। अवहार (अनि)। मक अवहारिअ (अनि)।

अवहार पु [अपहार] १ अपहरण (पणह १, ३, सुपा २७५)। २ दूर करना, परित्याग

(एया १, ६)। ३ चोरी (सुपा ४४६)। ४ वाहर करना, निकालना (निचू ७)। ५ भागा-कार (भग २५, ४)। ६ नाश, विनाश (सुर ७, १२५)।

अवहार पु [अवधार] निश्चय, निर्णय। व वि [वत्] निश्चय वाला (ठा १०)।

अवहार पु [अवधार्य] ध्रुव राशि, गणित-प्रसिद्ध राशिविशेष (सुज १०, ६ टी)।

अवहारण न [अवधारण] निश्चय, निर्णय (से ११, १५, स १६६)।

अवहारय वि [अपहारक] छोड़नेवाला, अप-हरण करनेवाला (सुर ११, १२)।

अवहारि वि [अपहारिन्] अपहारक, छोड़ने-वाला (सुपा ५०३)।

अवहारिय वि [अवधारित] निश्चित (स ५७६, पउम २३, ६, सुपा ३३१)।

अवहाव सक [क्रप्] दया करना, कृपा करना। अवहावेइ (पड, हे ४, १५१)। अवहावसु (कुमा)।

अवहाविअ वि [अवधावित] गमन के लिए प्रेरित (सिरि ४३४)।

अवहास पु [अवभास] प्रकाश, तेज (गउड, प्राप्र)।

अवहासिणी श्री [अवहासिनी] नासारज्जु, 'भोत्तवे जोत्तअपगगहम्मि अवहासिणी मुक्का' (गा ६६४)।

अवहासिय वि [अवभासित] प्रकाशित (सुपा १४२)।

अवहि देखो ओहि (सुपा ८६, ५७८, विसे ८२, ७३७)।

अवहिड वि [दे] दर्पित, अभिमानी, गर्वित (पड)।

अवहिट्ट न [दे] मैथुन, सभोग (सूअ १, ६, १०)।

अवहिय वि [अपहृत] छोड़ लिया हुआ (पउम २०, ६६, सुर ११, ३२, सुपा ४१३)।

अवहिय वि [अपहित] अहित (वड)।

अवहिय वि [अवधृत] नियमित (विसे २६३३)।

अवहिय न [अवधृत] अवधारण (वव १)।

अवहिय वि [अवहित] सावधान, ब्यालवाला (पाप्र, महा, एया १, २, पउम १०, ६५,

अहुह वि [अफुल्ल] अतिकसित (कुमा) ।
 अहुर्वत वक्तु [अभवत्] न होता हुआ
 (कुमा) ।
 अहूण देखो अहीण = गहीन (कुमा) ।
 अहूव वि [अभूत] जो न हुआ हो °पुञ्ज
 वि [°पूर्व] जो पहले कभी न हुआ हो (कुमा) ।
 अहे अ [अधस्] नीचे (आचा) । °कम्म
 न [कर्मन्] आचार्कर्म, भिक्षा का एक दोष
 (पिंड) । °काय पु [°काय] शरीर का नीचला
 हिस्सा (सूत्र १, ४, १) । °चर वि [°चर]
 बिल आदि में रहने वाले सर्प वगैरह जंतु
 (आचा) । °तारग पु [°तारक] पिशाच-
 विशेष (परण १) । °दिसा स्त्री [°दिक्]
 नीचे की दिशा (आचा) । °लोग पु [°लोक]
 पाताल-लोक (ठा २, २) । °वाय पु [°वात]
 नीचे बहनेवाला वायु (परण १) । २ अपान-
 वायु, पर्जन्य (आचम) । °विग्रह वि [°विक्रट]
 भित्त्यादिरहित स्थान, खुला स्थान, 'तसि
 भगव अपडिन्ने अहेवियडे अहियासए दविए'
 (आचा) । °सत्तमा स्त्री [°सप्तमी] सातवीं
 या अन्तिम नरकभूमि (सम ४१, एया १,
 १६, १६) । देखो अहो = अवस् ।
 अहे देखो अह = अव (भग १, ६) ।
 अहेउ पु [अहेतु] १ सत्य हेतु का विरोधी,
 हेत्वाभास (ठा ५, १) । २ वि कारणरहित,
 नित्य (सूत्र १, १, १) । °वाय पु [°वाद]
 आगमवाद, जिसमें तर्क—हेतु को छोड़कर

केवल शास्त्र ही प्रमाण माना जाता हो ऐसा
 वाद (सम्म १४०) ।
 अहेउय वि [अहेतुक] हेतुवर्जित, निष्कारण
 (पउम ६३, ४) ।
 अहेकम्म पुन [अध कर्मन्] १ अव्योक्ति में
 ले जाने वाला कर्म । २ भिक्षा का आचारकर्म
 दोष (पिंड ६९) ।
 अहेसणिज्ज वि [यथैवपीय] संस्काररहित,
 कोरा, 'अहेसणिज्जाद वत्थाइ जाएजा' (आचा) ।
 अहेसर पु [अहरीश्वर] सूर्य, सूरज (महा) ।
 अहो देखो अह = अवस् (सम ३६, ठा २, २-
 ३ १, भग, एया १, १, पउम १०२, ८१,
 भाव ३) ।
 °करण न [°करण] कलह, झगडा (निचू
 १०) । °गइ स्त्री [°गति] १ नरक या तिर्यञ्च-
 योनि । २ अवनति (पउम ८०, ४६) । °गामि
 वि [°गामिन्] दुर्गति में जानेवाला (सम
 १५३, आ ३३) । °तरण न [°तरण] कलह,
 झगडा (निचू १०) । °मुह् वि [°मुख]
 अव्योमुख, अवनत मुख, लजित (सुर २, १५८,
 ३, १३५, सुपा २४२) । °लोइय वि
 [°लौकिक्] पाताल लोक से सबन्ध रखने-
 वाला (सम १४२) । °हि वि [°अवधि]
 १ नीचे दर्जा का अवधिज्ञान वाला (राय) ।
 २ पुत्री नीचे दर्जा का अवधिज्ञान, अव-
 धिज्ञान का एक भेद (ठा २, २) ।
 अहो अ [अहनि] दिवस में, 'अही य राधो

य सिवाभिलासिणो' (पउम ३१, १२८, पवह
 २, १) ।
 अहो अ [अहो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
 १ विस्मय, आश्चर्य । २ खेद, शोक । ३ भ्रम
 न्यय, सबोधन । ४ वितर्क । ५ प्रसास । ६
 असूया, द्वेष (हे २, २१७, आचा, गउड) ।
 °दाण न [°दान] आश्चर्य कारक दान (उत
 २, कप्प) । °पुरिसिगा, °पुरिसिया स्त्री
 [°पुरुषिका] गर्न, अनिमान (स १२३,
 २८८) । °विहार पु [°विहार] समय का
 आश्चर्यजनक अनुष्ठान (आचा) ।
 अहो अ [अहो] दीनता-सूचक अव्यय (अणु
 १६) ।
 अहो पुन [अहन्] दिन, दिवस (पिण) ।
 °णिस, निस, निसि न [°निश] रात और
 दिन, दिन-रात, 'णिरए एेरइयाण अहोणिस
 पचमाणाण' (सूत्र १, ५, १, आ ५०), 'अतो
 अहोणिसिस्स च' (विसे ८७३) । °रत्त पु
 [°रात्र] १ दिन और रात्रि परिमित काल,
 आठ प्रहर (ठा २, ४), 'तिणिए अहोरता
 पुण न जामिया कयतेण' (पउम ४३, ३१) ।
 २ चार प्रहर का समय (जो २) । °राइया
 स्त्री [°रात्रिकी] ध्यानप्रधान अनुष्ठान विशेष
 (पवा १८, भाव ४, सम २१) । °राइयि
 न [°रात्रिन्दिक्] दिनरात (भग, मोप) ।
 अहोरण न [°हे] उत्तरीय वस्त्र, चादर (दे १,
 २५, गा ७७१) ।

इअ सिरिपाइअसदमहणवे अयाराइसहसकलणो
 एाम पढमो तरगो समत्तो ।



आ

आ पु [आ] १ प्राकृत वर्णमाला का द्वितीय
 स्वर-वर्ण (प्राण) । इन अर्थों का सूचक
 अव्यय—२ अ मर्यादा, सीमा, 'आस-
 मुह' (गउड, विसे ८७४) । ३ अभिविधि,
 ज्यामि, 'आसुलसिरं फलिहथमाओ' (कुमा,
 विसे ८७४) । ४ थोडापन, अल्पता:

'भाणीलककरुदुत्तर वरण' (गउड), 'आसव'
 (से ६, ३१, विसे १२३५) । ५ समन्तात्,
 चारों ओर, 'अणुकडनमा विवइएणसरस-
 कवरोविलधियसम्मि' (गउड, विसे ८७५) ।
 ६ अधिकता, विशेषता, 'आदीण' (सूत्र
 १, ५) । ७ स्मरण, याद (पड्) । ८ विस्मय,

आश्चर्य (ठा ५) । ९-१० क्रियाशब्द के योग
 में अर्थविस्तृति और विपर्यय, 'आहइ',
 'भागच्छैत' (पड्, कुमा) । ११ वाच्य की
 शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है
 (एया १, २) । १० पादपूर्ति में प्रयुक्त किया
 जाता अव्यय (पट् २, १, ७६) ।

अविक्रमण न [अवेक्षण] अवलोकन, निरीक्षण (भवि) ।

अविक्रमण न [अपेक्षण] अपेक्षा, परवाह (विसे १७१६) ।

अविक्रमण देखो अवेकखा (कुमा) ।

अविक्रिय वि [अपेक्षित] १ अपेक्षित । २ न अपेक्षा, परवाह, 'नाविक्रिय सभाए' (श्रा १४) ।

अविक्रिय वि [अवेक्षित] अवलोकित (सुपा ७२) ।

अविगइय वि [अविकृतिक] घृत आदि विकार-जनक वस्तुओ का त्यागी (सूत्र २, २) ।

अविगडिय वि [अविकटित] अनालोचित (वव १) ।

अविगएपे देखो अवियएप (सुर ४, १८६) ।

अविगएरा वि [अविकल्पक] १ विकल्प-रहित । २ न कल्पना-रहित प्रत्यक्ष ज्ञान (धर्मसे ७४०) ।

अविगल वि [अविकल] अखण्ड, पूर्ण (उप २८३) ।

अविगिच्छ वि [अविचिकित्त्य] जिसका इलाज न हो सके ऐसा, अभाव्य व्याधि,

'तालपुड गरलाण, जह बहुवाहीरा

वित्तिओ वाही ।

दोमाणमसेसाए, तह अविगिच्छो

मुसादोतो' (श्रा १२) ।

अविगीय पु [अविगीत] अगीतार्थ, शास्त्रो के रहस्य का अनामिन्न साधु (वव ३) ।

अविगह वि [अविग्रह] १ शरीर-रहित । २ शुद्ध-रहित, कलह-वर्जित (सुपा २३४) ।

३ सरल, सीवा (भग) । °गाइ ली [°गति] अकुटिल गति (भग १४, ५) ।

अविच्छ वि [अवीप्स्य] वीप्सारहित, व्याप्ति रहित (पह) ।

अविजाणय वि [अविज्ञायक] अनजान, मूर्ख (सूत्र १, ५, १) ।

अविज वि [अवीज] वीजराकि से रहित (पञ्च ११, २५) ।

अविणय पु [अविनय] विनय का अभाव (ठा ३, ३) ।

अविणयवइ } पुं [दे] जार, उपपत्ति (दे १, अविणयवर } १८) ।

अविणयवई ली [दे] अतती, कुलटा (दे १, १८) ।

अविणिद वि [अविनेद्र] निद्रा विच्छेदरहित (गा ६६) ।

अविण्णा ली [अवेज्ञा] अनुपयोग, ख्याल का अभाव (सूत्र १, १, १) ।

अवितह वि [अवितथ] सत्य, सच्चा (महा, ज्व) ।

अविद } अ [अविद, °दा] विपाद-सूचक अविदा } अव्यय (पि २२, स्वप्न ५८) ।

अविधि पुल्ली [अविधि] १ विरुद्ध विधि । २ विधि का अभाव (बह ३, आह १) ।

अविज्ञाण वि [अविज्ञान] १ अज्ञान । २ अज्ञात, अपरिचित (पञ्च ५, २१६) ।

अविड्ड वि [अविदग्ध] अनिपुण (सुपा ५८२) ।

अवियत्त न [अप्रीतिक] १ प्रीति का अभाव (ठा १०) । २ वि अप्रीतिकारक (पएह १, १) ।

अवियत्त वि [अव्यक्त] अस्पष्ट, अस्पष्ट, 'अवियत्त दसरा अणागार' (सम्म ६५) ।

अवियएप वि [अविकल्प] १ भेदरहित, 'वजराणजायस्स उ पुरिमो पुरिसो त्ति निच्च-मवियएपो' (सम्म ३५) । २ क्वि वि सराय,

सशयरहित; 'सविअपनिच्चिअएप इय पुरिस जो मरिणज अवियएप' (सम्म ३५) ।

अवियाउरी ली [दे अविजनयित्री] वन्ध्या ली (गाया १, २) ।

अवियाणय देखो अविजाणय (आचा) ।

अविरइ ली [अविरति] १ विराम का अभाव, अनिवृत्ति । २ पाप कर्म से अनिवृत्ति (सम १०, पएह २, ५) । ३ हिंसा (कम्म ४) । ४ अन्नह, मैथुन (ठा ६) । ५ विरति-परिणाम का अभाव (सूत्र २, २) । ६ वि विरतिरहित (नाट) । °वाय पु [°वाद] १ अविरति की चर्चा । २ मैथुन-चर्चा (ठा ६) ।

अविरइय वि [अविरतिक] विरति से रहित, पापनिवृत्ति से वर्जित, पाप कर्म मे प्रवृत्त (भग. कस) ।

अविरत्त वि [अविरक्त] वैराग्यरहित (गाया १, १४) ।

अविरय वि [अविरत] १ विरामरहित, अविच्छिन्न (गा १५५) । २ पाप निवृत्ति से रहित (ठा २, १) । ३ चतुर्थं गुणस्थानक वाला जीव (कम्म ४, ६३) । ४ क्वि सदा,

हमेशा (पात्र) । °सम्मदिट्ठि ली [°सम्य-गृष्टि] चतुर्थं गुणस्थानक (कम्म २, २) ।

अविरल वि [अविरल] निविड, धन (गाया १, १) ।

अविरहि वि [अविरहिन्] विरहरहित (कुमा) ।

अविराम वि [अविराम] १ विरामरहित । २ क्वि निरन्तर, हमेशा (पात्र) ।

अविराय वि [अविलीन] अन्नष्ट (कुमा) ।

अविराहिय वि [अविराधित] अखण्डित, आराधित (भग १५) ।

अविरिय वि [अवीर्य] वीर्यरहित (भग) ।

अविल पु [दे] १ पशु । २ वि कठिन (दे १, ५२) ।

अविलविय वि [अविलम्बित] विलम्ब-रहित, शीघ्र (कप्प) ।

अविला ली [अविला] मेपी, भेडी (पात्र) ।

अविवेग पु [अविवेक] १ विवेक का अभाव । २ वि विवेकरहित । °वत् वि [°वत्] अविवेकी (पञ्च ११३, ३९) ।

अविसाधि वि [अविसाधि] पूर्वापर विरोध से रहित, सगत, सबद्ध (श्रौप) ।

अविसवाइ वि [अविसंवादिन्] विसवा-रहित, प्रमाण भूत, सत्य (कुमा; सुर ६, १७८) ।

अविसम वि [अविपम] सदृश, तुल्य (कुमा) ।

अविसाइ वि [अविपादिन्] विषादरहित (पएह २, १) ।

अविसेस वि [अविशेष] तुल्य, समान (ठा २, ३, उप ८७७) ।

अविसेसिय वि [अविशेषित] (ठा १०) ।

अविस्स न [अविश्र] मास और रुधिर (पव ४०) ।

अविस्साम वि [अविश्राम] १ विश्रामरहित (पएह १, १) । २ क्वि. निरन्तर, सदा (उप ७२८ टी) ।

आइरघ सक [आ + घ्रा] सूँघना। आइरघइ, आइरघाइ (षट्)। हेऊ. आइरघउ (कुमा)।
 आइरघ अ [दे] कदाचित्, कोईवार (परण १७—पत्र ४८५)।
 आइरघ पु [आदित्य] १ सूर्य, सूरज, रवि (सम ५६)। २ लोकांतिक देव-विशेष (राया १, ८)। ३ न देवविमान-विशेष। ४ पु तन्निवासी देव (पव)। ५ वि आद्य, प्रथम (सुज २०)। ६ सूर्यसवन्धी, 'आइचे ए मासे' (सम ५६)। 'गइ पु [गति] राक्षस वश के एक राजा का नाम (पउम ५, २६१)। 'जस पु [यशस्] भरत चक्रवर्ती का एक पुत्र, जिससे इक्ष्वाकु वंश की शाखाएँ सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई थी (पउम ५, ३, सुर २, १३४)। 'पभ न [प्रभ] इस नाम का एक नगर (पउम ५, ८२)। 'पीठ न [पीठ] भगवान् ऋषभदेव का एक स्मृतिचिह्न—पादपीठ (भावम)। 'रख पु [रक्ष] इस नाम का लङ्का का एक राजपुत्र (पउम ५, १६६)। 'रय पु [रजस्] वानर वंश का एक विद्याधर राजा (पउम ८, २३४)।
 आइरघ देवो आएरघ (नव १५)।
 आइरघमाण वक्र [आर्द्राक्रियमाण] आर्द्र किया जाता, भीजाया जाता (आचा)।
 आइरघमाण देवो आढा = आ + द।
 आइरघ वि [आदिष्ट] १ उक्त, उपदिष्ट (सुर ४, १०१)। २ विवक्षित (सम्म ३८)।
 आइरघ वि [आविष्ट] अघिष्ठित, आश्रित (कस)।
 आइरघि वी [आदिष्टि] धारणा (ठा ७)।
 आइरघि वी [आत्मि] आत्मा की शक्ति, आत्मीय सामर्थ्य (भग १०, ३)।
 आइरघिहय वि [आत्मि] आत्मीय शक्ति-संपन्न (भग १०, ३)।
 आइरघिहय वि [आवृष्ट] खीचा हुआ (हम्मिर १७)।
 आइरघण देवो आइरघ = (दे) (तंदु २०)।
 आइरघण देवो आइरघ (श्रौप, भग ७, ८, हे ३, १३४)।
 आइरघ वि [आदीप्त] थोडा प्रकाशित—उचलित (राया १, १)।
 आइरघ वि [आयत्त] अधीन, वशीभूत, 'तुज्ज सिरी जा परस्त 'आइता' (जीवा १०)।

आइरघु वि [आदावृ] ग्रहण करने वाला (ठा ७)।
 आइरघूण देवो आइ = आ + दा।
 आइरघ्य न [आतिथ्य] अतिथि-सत्कार (प्राक् २१)।
 आइरघि वी [आकृति] आकार (प्राप्र, स्वप्न २०)।
 आइरघ वि [आविद्ध] १ प्रेरित (मे ७, १०)। २ स्पष्ट, हुआ हुआ (से ३, ३५)। ३ पहना हुआ, परिहित (आक ३८)।
 आइरघ वि [आदिग्ध] व्याप्त (राया १, १)।
 आइरघ वि [आकीर्ण] १ व्याप्त, भरा हुआ (सुर १, ४६, ३, ७१)। २ पु वक्र दायक कल्पवृक्ष (ठा १०)।
 आइरघ वि [आचीर्ण] आचरित, विहित (आचा, चैत्य ४६)।
 आइरघ वि [आदीर्ण] उद्विग्न, खिन्न, 'आइ-आइ पियराइ तीए पुच्छति दिव्व-देवन्' (सुपा ५६७)।
 आइरघ पु [दे] जात्यश्व, कुलीन घोडा (परह १, ४)।
 आइरघपण न [दे] १ आटा (गा १६६, दे १, ७८) २ घर की शोभा के लिए जो चूना आदि की सफेदी दी जाती है वह। ३ चावल के आटा का दूब। ४ घर का मरदान—भूपण (दे १, ७८)।
 आइरघ (अप) वि [आयात] आया हुआ (भवि)।
 आइरघ वि [आचित] १ सचित, एकत्रीकृत। २ व्याप्त, आकीर्ण। ३ अश्रित, गुम्फित (कम्प, श्रौप)।
 आइरघ वि [आहत] आदरप्राप्त (कम्प)।
 आइरघण न [आदान] ग्रहण, उपादान (परह १, ३)।
 आइरघणया वी [आदान] ग्रहण, उपादान (ठा २, १)।
 आइरघि देवो आयरिय = आचार्य (हे १, ७३)।
 आइरघ वि [आविळ] मलिन, कलुप, अन्वच्छ (परह १, ३)।

आइरघ } वि [आदिम] प्रथम, पहला
 आइरघिय } (सम १२६, भग)। 'आइरघियणु
 तिसु लेसासु' (परण १७, विसे २६३४)।
 आइरघिअ पु [आतिवाहिरु] देव-विशेष,
 जो मृत जीव को दूसरे जन्म में ले जाने के
 लिए नियुक्त है,
 'काहे अमाणवता अरिगमुहा,
 आइरघिआ तव पुरिसा।
 अइरघेहिति मम अचुआ।
 तमगहएणियणयकतार'
 (अचु ८५)।
 आइरघिअ पु [आतिवाहिरु] मार्गदर्शक
 (वासुदेवाहिडी पत्र १५)।
 आइरघ सक [आ + दिश] आदेश करना,
 हुकुम करना, फरमाना। आइरघ (पि ४७१)।
 वक्र. आइरघत (सुर १६, १३)।
 आइरघण वि [दे] उज्जित, परित्यक्त (दे १,
 ७१)।
 आइरघ वि [आदीन] १ अतिदीन, बहुत
 गरीब (सूत्र १, ५)। २ न दूषित भिन्ना
 (सूत्र १, १०)।
 आइरघ पु [दे] जातिमान् अश्व, कुलीन घोडा
 (राया १, १७)।
 आइरघ } न [आजिन, क] १ चमड़े का बना
 आइरघण } हुआ वक्र (राया १, १, आचा)।
 १ पु द्वीप-विशेष। २ समुद्र विशेष (जीव ३)।
 'भइ पु [भद्र] आजिन-द्वीप का अघिष्ठाता
 देव (जीव ३)। 'महाभइ पु [महाभद्र]
 देवो पूर्वोक्त अर्थ (जीव ३)। 'महावर पु
 [महावर] आजिन और आजिनवर नामक
 समुद्र का अघिष्ठाता देव (जीव ३)। 'वर पु
 [वर] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष।
 ३ आजिन और आजिनवर समुद्र का अघिष्ठाता
 देव (जीव ३)। 'वरभइ पु [वरभद्र]
 आजिनवरद्वीप का अघिष्ठाता देव (जीव ३)।
 'वरमहाभइ पु [वरमहाभद्र] देवो
 अनन्तर उक्त अर्थ (जीव ३)। 'वरोभास पु
 [वरावभास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-
 विशेष (जीव ३)। 'वर-भासभइ पु
 [वरावभासभद्र] उक्त द्वीप का अघिष्ठाता
 देव (जीव ३)। 'वरोभाममहाभइ पु
 [वरावभासमहाभद्र] देवो पूर्वोक्त अर्थ

अव्यागड - असंगय

अव्यागड वि [अव्याकृत] अव्यक्त, अस्फुट (आचा. सत् ६ टी) ।

अव्याण वि [आव्यान] थोडा स्निग्ध (श्रोध ४८८) ।

अव्यावाह वि [अव्यावाध] १ हरज-रहित, वावा-वर्जित (आव ३) । २ न रोग का अभाव (भग १८, १०) । ३ सुख (आवम) । ४ मोक्ष-स्थान, मुक्ति (भग १, १) । ५ पु लोकांतिक देव-विशेष (गाया १ ८) ।

अव्यावाह पुन [अव्यावाव] एक देवविमान (वेन्द १४५) ।

अव्यावड वि [अव्यापृत] १ जो व्यवहार मे न लाया गया हो, व्यापार-रहित । २ एक प्रकार का वास्तु (बृह ३) ।

अव्यावन्न वि [अव्यापन्न] अविनष्ट, नाश को अप्राप्त (भग १, ७) ।

अव्यावार वि [अव्यापार] व्यापार-वर्जित (स ५०) ।

अव्याहय वि [अव्याहत] १ रूकावट-वर्जित (ग ४, ४, सुपा ८६) । २ अनुपहत, आघात-रहित (एदि) । ३ पुष्पावरत्त न [पूर्वा-परत्त्व] जिसमें पूर्वापर का विरोध या असंगति न हो ऐसा (वचन) (राय) ।

अव्याहार पु [अव्याहार] न बोलना, मौन (पाश) ।

अव्याहिय वि [अव्याहृत] न बुलाया हुआ (जीव-३, आचा) ।

अविरय वि [अविरत] विरति-रहित (सट्टि ८) ।

अव्यो अ नीचे के अर्थों में से, प्रकरण के अनु-सार, किसी एक अर्थ का सूचक अव्यय—१ सूचना । २ दु ख । ३ समापण । ४ अपराध । ५ विस्मय । ६ आनन्द । ७ आदर । ८ भय । ९ वेद । १० विपाद । ११ पश्चात्ताप, 'अव्यो हरति हियय,

(बृह २) । २ फैलाव-रहित (वसा ३) । ३ नही वाटा हुआ । ४ अस्फुट अस्पष्ट । ५ न एक प्रकार का वास्तु (बृह ३) ।

अव्योच्छिण्ण वि [अव्युच्छिन्न, अव्यव-च्छिन्न] १ आन्तर-रहित, सतत, विच्छेद-वर्जित (वव ७) । २ नित्य । ३ अव्याहत (गउड) ।

अव्योच्छित्ति स्त्री [अव्युच्छित्ति, अव्यव-च्छित्ति] १ सातत्य, प्रवाह, बीच में विच्छेद का अभाव, परपरा से बराबर चला आना (आवम) । २ नय पु [नय] वस्तु को किसी न किसी रूप से स्थायी माननेवाला पक्ष, द्रव्यार्थिक नय (भग ७, ३) ।

अव्योच्छिन्न देखो अव्योच्छिण्ण (श्रोध ३२२, स २५६) ।

अव्योयड देखो अव्योगड (भग १०, ४, भास ७१) ।

अस सक [अश्] व्याप्त करना । असड, असए (षड्) ।

अस अक [अस्] होना । अस्सि, 'हाहा ह्योहमस्सि त्ति कट्टु' (भग १५) । अस्सि (प्राप) । अस्सि (हे ३, १४६, १४७, १४८) । भूका आमि, आसी (भग, उवा) ।

अस सक [अश्] भोजन करना, खाना । असड, 'भवमणोसात्तुर नासड दोसोवि जत्थाही' (सार्धं १०६, भवि) । वक असत (भवि) । क असियव्व (सुपा ४३८) ।

अस वक [असत्] अविद्यमान, असत्, 'दुहम्मो ए विणस्सति, नो य उप्पज्जए अस्' (सूत्र १, १, १, १६) ।

असड स्त्री [असुनि] १ उलटा रखा हुआ हस्त तले । २ धान्य मापने का एक परिमाण । ३ उससे मापा हुआ धान्य (अणु, गाया १, ७) ।

असड स्त्री [दे असत्त्व] अभाव, अविद्यमानता, 'पढम जईए दाऊए,

[पुं पोप] घन के लिए दासी, नपुंसक या पशुओं का पालन, 'असईपोस च वज्जिजा' (आ २२) । ० पोसणया स्त्री [०पोपणा] देखो अनन्तरोक्त अर्थ (पडि) ।

असउग पुन [अशकुन] अपशकुन (पचा ७) । असक वि [अराङ्क] १ शङ्का-रहित, अर्न-दिग्ध । २ निडर, निर्भय (आचा, सुर २, २६) ।

असकल वि [अशृङ्खल] शृङ्खला-रहित, अनियन्त्रित (कुमा) ।

असकि वि [अशाङ्कि] सदेह न करने वाला (सूत्र १, १, २) ।

असकिलिट्ठ वि [असक्लिष्ट] १ सक्लेश-रहित । २ विशुद्ध, निर्दोष (श्रोप, परह २, १) ।

असख वि [असखय] संत्या-रहित, परिमाण-रहित (सुपा ५६६, जी २७, ४०) ।

असख न [असंख] मत से भिन्न दर्शन (सुपा ५६६) ।

असखड स्त्रीन [दे] कव्व भगडा, 'जत्थ व समणीणमसखडाट गच्छमि नेव जायनि' (गच्छ ३, ११) । स्त्री 'डी (पव १०६) ।

असखड न [दे] कव्व, भगडा (निच्च १) ।

असखडिय वि [दे] कव्व करने वाला, भगडाखोर (बृह १) ।

असखय देखो असख = अगमय (स ८५) ।

असखय वि [आरास्कृत] ० सत्कार-हीन । २ सधान करने के अर्थ (राज) ।

असखिज्ज वि [असपेय] गिनती या परिमाण करने के अर्थ (नव ३५) ।

असखिज्जय देखो असत्त्व (११) ।

असखेज्ज देखो अमखिज्ज (भग) ।

असखेज्जइ वि [असखेय] अ

भाग पु [भाग] असख्यातवा हि

आउट्टि स्त्री [आकुट्टि] १ हिंसा, मारना (आचा, उव) । २ निर्दयता (आप १८) ।
 आउट्टि स्त्री [आवृत्ति] देखो आउट्टण = आवर्तन (वव १, १०, १०, सूत्र १, १, आचा) । ५ बार-बार करना, पुन पुन. क्रिया (सुज १२) ।
 आउट्टि वि [आकुट्टिन्] १ मारनेवाला, हिंसक, 'जाण काएण णाउट्टी' (सुत्र) । २ अकार्य-कारक (दसा) ।
 आउट्टि वि [दे] साढे तीन, 'एगे पुण एवमा-हसु ता आउट्टि चदा आउट्टि सुवा सब्वल्लोय भोभासेत्ति (सुज १६) ।
 आउट्टिम वि [आकुट्टय्य] कूटकर बैठाने योग्य (जैसे सिक्के में अक्षर) (दसनि २, १७) ।
 आउट्टिय देखो आउट्ट = आवृत्त (दसा) ।
 आउट्टिय पु [आकुट्टिक] दण्ड-विशेष (भत २७) ।
 आउट्टिय वि [आकुट्टित] छिन्न, विदारित (सुत्र) ।
 आउट्टिया स्त्री [आकुट्टिका] पास में आकर करना (पचा १५, १८) ।
 आउट्ट वि [आउट्ट] सतुष्ट (निद्र १) ।
 आउट्ट सक [आ+जोडय्य] संबन्ध करना, जोड़ना । कवक आउट्टिज्जमाण (भग ५, ४) ।
 आउट्ट सक [आ+कुट्ट] १ कूटना, पीटना । २ ताड़न करना, आघात करना । आउट्टेइ (ज ३) । कवक आउट्टिज्जमाण (भग ५, ४) ।
 आउट्ट सक [लिख्] लिखना, 'इति कट्टु णामग आउट्टेइ' सक्क. आउट्टित्ता (ज ३—पत्र २५०) ।
 आउट्टिय वि [आकुट्टित] ग्राह्य, ताडित (ज ३—पत्र २२२) ।
 आउट्ट सक [मस्सज्] मज्जन करना, ह्वाना । आउट्टेइ (हे ४, १०१; पड्) ।
 आउट्टिय वि [मग्न] ह्वाना हुआ, तल्लीन (कुमा) ।
 आउट्टण वि [आपूर्णा] पूर्ण, भरपूर, व्याप्त. 'कुसुमफलाउरणहल्लोहि' (पउम ८, २०३) ।
 आउत्त वि [आयुक्त] १ उपयोग वाला, सावधान (कम्प) । २ क्वि वि उपयोग-पूर्वक (भग) । ३ न पुरीयोत्सर्ग, फरणगत जाना (?)

(उप ६८५) । ४ पु. गाँव का नियुक्त किया हुआ मुखिया (दे १, १६) ।
 आउत्त वि [आगुत्त] १ सक्रिय (ठा ३, १) । २ संयत (भग) ।
 आउत्थ वि [आत्थोत्थ] आत्म-कृत (वव ४) ।
 आउर वि [आतुर] १ रोगी, बीमार (एदि) । २ उत्कण्ठित । ३ दुःखित, पीडित (प्रासू २८, ६५) ।
 आउर न [दे] १ लडाई, युद्ध । २ वि बहुत । ३ गरम (दे १, ६५, ७६) ।
 आउरिय वि [आतुरित] दुःखित, पीडित (आचा) ।
 आउल वि [आकुल] १ व्याप्त (श्रौप) । २ व्यग्र (आव) । ३ व्याकुल, दुःखित । ४ सकीर्ण (स्वप्न ७३) । ५ पु सपूह (विसे ७००) ।
 आउल सक [आकुलय्य] १ व्याप्त करना । २ व्यग्र करना । ३ दुःखी करना । ४ सकीर्ण करना । ५ प्रचुर करना । कवक—आउल्लिज्जत, आउलीअमाण (महा, पि ५६३) ।
 आउलि स्त्री [आतुलि] वृक्ष-विशेष (दे ५, ५) ।
 आउलिअ वि [आकुलित] आकुल किया हुआ (गा २५, पउम ३३, १०६, उप पृ ३२) ।
 आउलीकर सक [आकुली+क] देखो आउल = आकुलय्य । आउलीकरेत्ति (भग) । कवक आउलीकिअमाण (नाट) ।
 आउलीभूअ वि [आकुलीभूत] घबड़ाया हुआ (सुर २, १०) ।
 आउल्लय न [दे] जहाज चलाने का काष्ठमय उपकरण (सिरि ४२४) ।
 आउस अक [आ + वस्] रहना, वास करना । वक्क आउसंत (सम १) ।
 आउस सक [आ + कुश] आक्रोश करना, शाप देना, निष्ठुर वचन बोलना । आउसइ (भग १५) । आउसेज्, आउसेत्ति (उवा) ।
 आउस सक [आ + मृश] स्पर्श करना, छूना । वक्क आउसत (सम १) ।
 आउस सक [आ + जुप्] सेवा करना । वक्क आउसत (सम १) ।
 आउस न [दे] कूचं (दे १, ६५) । सुरकर्म (नंदीटि टिप्पनक)
 आउस देखो आउ = आयुप् (कुमा) ।

आउस } वि [अयुष्मत्] चिरायु, दीर्घायु
 आउसंत } (सम २६, आचा) ।
 आउसणा स्त्री [आक्रोशाना] अभिशाप, निर्मत्संन (णया १, १८, भग १५) ।
 आउरस देखो आउस = आ + कुश । आउरसत्ति (णया १, १८) ।
 आउरस पु [आक्रोश] दुर्वचन, असम्य वचन (सुत्र १, ३, ३, १८) ।
 आउरिसय वि [आवद्यय] १ जरूरी । २ क्वि जरूर, अवश्य (परण ३६) । °करण न [°करण] १ मन, वचन और काया का शुभ व्यापार । २ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति (परण ३६) ।
 आउह न [आयुध] १ शत्रु, हथियार (कुमा) । २ विद्याघर वश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४४) । °घर न [°गृह] शत्रुशाला (ज) । °घरसाला स्त्री [°गृहशाला] देखो अनन्तर-उक्त अर्थ (ज) । °घरिय वि [°गृहिक] आयुधशाला का अध्यक्ष—प्रधान कर्मचारी (ज) । °गार न [°गार] शत्रुगृह (श्रौप) ।
 आउहि वि [आयुधिन्] योद्धा, शत्रुवाक (विसे) ।
 आऊड अक [दे] जुए में पण करना । आऊडइ (दे १, ६६) ।
 आऊडिय न [दे] द्यूत-पण, जुए में की जाती प्रतिज्ञा (दे १, ६८) ।
 आऊर सक [आ + पूरय्य] भरना, पूर्ति करना, भरपूर करना । आऊरेइ (महा) । क्व आऊरयत्त, आऊरमाण (पउम) १०२ ३३, से १२, २८) । कवक. आऊरिज्जमाण (पि ५३७) । सक्क आऊरियि (अप) (अवि) ।
 आऊरिय वि [आपूरित] मरा हुआ, व्यात (सुर २, १६६) ।
 आऊसिय वि [आयूपित] १ प्रविष्ट । २ सकुचित (णया १, ८) ।
 आएज्ज वि [आदेय] ग्रहण करने के योग्य उपादेय । °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, जिसके उदय में किसी का कोई भी वचन ग्राह्य माना जाता है (सम ६७) ।
 आएस वि [ऐप्यत्] आगामी, भविष्य में होने वाला (सुत्र १, २, ३, २०) ।

असणी स्त्री [अशनी] एक इन्द्राणी (ठा ४, १)।

असणी स्त्री [अशनी] जिह्वा, जीभ, 'अवखा-
णसणी कम्माण मोहण तह वयाण बभ च'
(सुख २, ४२)।

असण वि [असञ्ज] सञ्चारहित, अचेतन
(लहुअ ६)।

असण वि [असञ्जिन्] १ सज्जि-भिन्न,
मनोज्ञान से रहित (जीव) (ठा २, २)। २
सम्यग्दृष्टि भिन्न, जैनेतर (भग १, २)। ३ सुय
न [श्रुत] जैनेतर शास्त्र (एदि)।

असत्त वि [अशक्त] असमर्थ (सुर ३, २४४,
१०, १७४)।

असत्त वि [असक्त] अनासक्त (आचा)।
असत्त न [असत्त] अभाव, असत्ता (एदि)।
असत्ति स्त्री [अशक्ति] सामर्थ्य का अभाव।
० मत वि [० मत] असमर्थ, अशक्त (पउम
६६, ३६)।

असत्थ वि [असत्थ] अतदुस्त, बीमार
(सुर ३, १२७)।

असत्थ न [अशक्त] १ शक्त-भिन्न। २ समय,
निर्दोष अनुष्ठान (आचा)।

असद् पु [अशब्द] १ अकीर्ति, अपयश
(गच्छ ३)। २ वि शब्दरहित (बृह ३)।

असद् वि [अशब्द] शब्दरहित। स्त्री ० द्वी
(उप ४ ३६४)।

असन्नि देवो असणिण (भग, जी ४३)।

असन्न वि [अशन्न] १ अमिश्रित। २
निर्दोष, पवित्र (परह २, १)।

असन्न वि [असन्न] अशिष्ट, जगली (स
६४०)। ० भासि वि [भापिन्] असन्न-
भाषी (सुर ६ २१०)।

असन्नभाव पु [असन्नभाव] १ यथार्थता का
अभाव, झूठ (पिड)। २ वि असत्य, अयथार्थ
(उत्त ३, श्रौप)।

असन्नभावि वि [असन्नविन्] झूठा, असत्य
(महा)।

असन्नभय वि [असन्नभूत] असत्य (भग)।

असम वि [असम] १ असमान, असाधारण
(सुर ३, २४)। २ एक, तीन, पाच आदि
एकाई महत्ता वाला, विपम। ० सर पु [० सर]
कामदेव (गउड)।

असमवाइ न [असमवायिन्] नैयायिक और
वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-विशेष (विसे
२०६६)।

असमजस वि [असमजस] १ अव्यवस्थित,
गैरव्याजवी (आचा, सुर २, १३१, सुपा
६२३, उप १०००)। २ क्रि वि अव्यवस्थित
रूप से (पात्र)।

असमिक्खिय वि [असमीक्षित] अना-
लोचित, अविचारित (परह १, २)। ० कार
वि [० कारन्] साहसिक। ० कारिया स्त्री
[० कारिता] साहस कर्म (उप ७६८ टी)।

असरासय वि [दे] निर्दय, निष्ठुर हृदय
वाला (दे १, ४०)।

असलील वि [अस्लील] असम्य भाषा (मोह
८७)।

असव पु [असु] प्राण, 'विज्जासवो विअ
ठियो कच्चि काल' (स ३५७)।

असवण वि [असवण] असमान, असाधारण
(सरण)।

असवार पु [अश्ववार] घुडसवार (धर्मवि
४१)।

असह वि [असह] १ असहिष्णु (कुमा, सुपा
६२०)। २ असमर्थ (वव १)। ३ खेद करने
वाला (पात्र)।

असहण वि [असहन] असहिष्णु, क्रोधो
(पात्र)।

असहाय वि [असहाय] १ सहायरहित
(भग)। २ एकाकी (बृह ४)।

असहिज्ज वि [असाहाय्य] १ सहायता-
रहित। २ सहायता का अनिच्छुक (उवा)।

असहीण वि [अस्वाधीन] परतन्त्र, पराधीन
(वस ८)।

असहु वि [असह] १ असहिष्णु (उव)।
२ असमर्थ, अशक्त (श्रीव ३६, भा)। ३
बीमार, ग्लान (निचू १)। ४ सुकुमार, कोमल
(ठा ३, ३)।

असहेज्ज देवो असहिज्ज (भग)।

असागारिय वि [असागारिक] गृहस्थो के
आवागमन से रहित स्थान (वव ३)।

असाढभूइ पु [अपाढभूति] एक जैन मुनि
(पिड ४७४)।

असाढय न [असाढ ऋ] तुण-विशेष (परण
१, पत्र ३३)।

असाय न [असात] दु ख पीडा (परह १, १),
'रागवा इह जीवा,

दुल्लहल्लोयम्मि गाढमणुरत्ता।

ज वेइत्ति अमाय, कत्तो त हदि नरएवि'
(सुर ८, ७६)।

० वेयणिज्ज न [० वेदनीय] दु ख का कारण-
भूत कर्म (ठा २, ४)।

असार } वि [असार, ० ऋ] निस्सार, सार-
असारय } रहित (महा, कुमा)।

असारा स्त्री [दे] कदली-वृक्ष, केला का पेड
(दे १, १२)।

असालिय पु स्त्री [द] सर्प की एक जाति
(सूअ २ २, २४)।

असासय नि [अशाश्वत] अनित्य, विनश्वर
(साया १, १, गा ० ८८)।

असाहण न [अमाधन] अनिति (सर ४,
२४८)।

असाहारण वि [असावारण] अनुत्थ, अनुप-
(भग, दस)।

असि पुं [असि] १ खड्ग, तलवार (पात्र)।
२ इस नाम की नरकपाल देवो की एक जाति

(भग ३, ६)। ३ स्त्री बनारस की एक नदी
का नाम (ती ३८)। ० कुड न [० कुण्ड] मथुरा

का एक तीर्थ-स्थान (ती ७)। ० घाय पु
[० घात] तलवार का घाव (पउम ५६, २५)।

० चम्मपाय न [० चर्मपात्र] तलवार की
म्यान, कोश (भग ३, ५)। ० धारा स्त्री

[० धारा] तलवार की वार (उत्त १९)।
० धेणु, धेणुआ स्त्री [० धेनु, धेनुका] छुरी

(गउड, पात्र)। ० पत्त न [० पत्र] १ तलवार
(विपा १, ६)। २ तलवार के जैसा तीक्ष्ण

पत्र (भग ३, ६)। ३ तलवार की पतरी (जीव
३)। ४ पु नरकपाल देवो की एक जाति (सम

२६)। ० पुत्तगा स्त्री [० पुत्तिका] छुरी (उप
४ ३३४)। ० मुट्टि स्त्री [० मुट्टि] तलवार

की मूठ (पात्र)। ० रयण न [० रत्न] चक्रवर्ती
राजा की एक उत्तम तलवार (ठा ७)। ० लो

स्त्री [० यष्टि] खड्ग-लता, तलवार (विपा १,
३)। ० वण न [० वन] खड्गाकार पत्ते वाले
वृक्षो का जगल (परह १, १)। ० वत्त देवो

आकिदि देखो आकिइ (कुमा) ।

आकुच सक [आ + कुञ्चय्] सकोच करना ।
आकुचइ, सक्र आकुचिवि (अप) (भवि) ।
आकुचण न [आकुञ्चन] संकोच, संकोप
(सम्म १३३, विसे २४६२) ।

आकुञ्चिय वि [आकुञ्चित] सकुचित, 'रुद्ध
गलय आकुञ्चियाओ धमणीओ पसरिया वियणा'
(सुर ४, २३८) ।

आकुट्ट न [आकुट्ट] १ आक्रोश । २ वि जिस
पर आक्रोश किया गया हो वह (दे ३, ३२) ।

आकुल दे आउल (कम्प) ।

आकूय न [आकूत] १ इङ्गित, इशारा (उप
७२८ टी) । २ अभिप्राय (विसे ६२८) ।

आकेवलिय वि [आकेवलिक] असपूर्ण
(आचा) ।

आकोडण न [आकोटन] कूट कर घुसेडना
(परह १, ३) ।

आकोस देखो अक्कोस = आक्रोश (पच ४,
२३) ।

आकोसाय अक [आकोशाय्] विक्रमित
होना । वक्क आकोरायत (परह १, ४) ।

आकद (मा) देखो आकद । आककवामि (पि
८८) ।

आखच (अप) सक [अ + कृप्] पीछे
खीचना । सक्र आखचिवि (भवि) ।

आखडल पुं [आखण्डल] इन्द्र (सुपा
५७) । °धणुह न [°धनुप्] इन्द्रधनुप्
(उप ६८६ टी) । °भूइ पु [°भूति] भग-
वान् महावीर के मुख्य शिष्य गौतम-स्वामी
(पउम ११८ १०२) ।

आगड जी [आगति] आगमन (आचा, विसे
२१४६) ।

आगड देखो आकिइ (महा) ।

आगतव्व देखो आगम = आ + गम् ।

आगतगार } न [आगन्त्रगार] धर्मशाला,
आगतर } मुसाफिरखाना (अप, आचा) ।

आगतु वि [आगन्ट] आनेवाला (सूत्र) ।

आगन्तु देखो आगम = आ + गम् ।

आगतुग } वि [आगन्तुक] १ आनेवाला ।
आगतुय } २ अतिथि (स ४७१, चाह २४,
सुपा ३३६, श्रोष २१६) । ३ कृत्रिम, अस्वा-
भाविक (सुर १२, १०) ।

आगतूण देखो आगम = आ + गम् ।

आगप सक [आ + वम्पय्] कँपाना,
हिलाना । वक्क आगपयत (स ३३१, ४४३) ।

आगपिय देखो आकपिय (पउम ३४, ४३) ।

आगन्छे सक [आ + गम्] आना, आग-
मन करना । आगच्छइ (महा) । भवि
आगच्छत्सइ (पि ५२३) । वक्क आगच्छत,
आगच्छमाण (काल, भग) । हेक्क आग-
च्छित्तए (पि ५७८) ।

आगत देखो आगय (सुर २, २४८) ।

आगत्ती ली [दे] कूप तुला (दे १, ६३) ।

आगम सक [आ + गम्] १ आना, आगमन
करना । २ जानना । भवि आगमित्त (पि
५२३, ५६०) । वक्क आगममाण (आचा) ।
सक्र आगतूण आगमेत्ता, आगम्म (पि
५८१, ५८२, श्रौप) । क्क आगतव्व (सुपा
१२) । हेक्क आगंतु (काल) ।

आगम पु [आगम] १ समागम (पच, १४५) ।
२ ज्ञान, जानकारी, 'चोइसावजाठाणाण आगमे
कए' (सुख २, १३) ।

आगम पु [आगम] १ आगमन (से १४,
७५) । २ शास्त्र, सिद्धान्त (जी ४८) । °कुसल
वि [°कुशल] सिद्धान्तो का जानकार (उत्त) ।
°ज्ज वि [°ज्ज] शास्त्रो का जानकार (प्राह) ।
°णीइ ली [°नीनि] आगमोक्त विधि (धर्म
२) । °णुणु वि [°णु] शास्त्रो का जानकार
(प्राह) । °परतत वि [°परतन्त्र] सिद्धान्त
के अधीन (पचव) । °वलिय वि [°वलिक]
सिद्धान्तो का अच्छा जानकार (भग ८, ८) ।
°ववहार पु [°व्यवहार] सिद्धान्तानुमोदित
व्यवहार (वव) ।

आगम सक [आ + गम्] प्राप्त करना । सक्र
आगमित्ता (सूत्र २, ७, ३६) ।

आगमण न [आगमन] आगमन (आ ४) ।

आगमि वि [आगमिन्] आने वाला, आगामी
(विसे ३१५४) ।

आगमिअ वि [आगमित्] विदित, ज्ञात,
'तत्थ अच्चइतो आगमिओ' (सुख १, ३) ।

आगमिय वि [आगमिक] १ शास्त्र-संबन्धी,
शास्त्र-प्रतिपादित (उवर १४१) । २ शास्त्रोक्त
वस्तु को ही माननेवाला (सम्म १४२) ।

आगमिर वि [आगन्ट] आनेवाला, आगमन
करनेवाला (सण) ।

आगमित्तस वि [आगमित्तयन्] १ आगामी,
होनेवाला (पउम ११८, ६३) । २ आनेवाला
(सम १५३) ।

आगमित्सा ली [आगमित्तयन्ती] भविष्य-
काल, 'अईअकालम्मि आगमित्साए' (पय
६०) ।

आगमेस } देखो आगमित्तस (श्रत १६,
आगमेसि } श्रौप) ।

आगम्म देखो आगम = आ + गम् ।

आगय वि [आगत] १ आया हुआ (प्रासू ५) ।
२ उत्पन्न (साया १, ७) ।

आगर देखो आकर = आकर (आचा, उप ८३३
टी) ।

आगरि वि [आकरिन्] खान का मालिक,
खान का काम करनेवाला (परह १, २) ।

आगरिस पु [आकरपे] १ ग्रहण, उपादान
(विसे २७८०, सम १४७) । २ खीचाव (विसे
२७८०, हे १, १७७) । ३ ग्रहण कर छोड़
देना (आहू) । ४ प्राप्ति (भग २५, ७) ।

आगरिस सक [आ + कृप्] खीचना । वक्क
आगरिसत (धर्मस ३७२) ।

आगरिसग वि [आकरपेक] १ खीचनेवाला ।
२ पु अयस्कान्त, लोह-बुन्दक (आवम) ।

आगरिसण न [आकरपेण] खीचाव (सम्मत्त
२१५) ।

आगरिसणी ली [आकरपेणी] विद्या विगेष
(सुर १३, ८१) ।

आगरिसिय वि [आकृष्ट] नीचा हुआ (सुपा
१६६ महा) ।

आगल सक [आ + फलय्] १ जानना ।
२ लगाना । ३ पहुँचाना । ४ सभावना करना ।

आगलेइ (उव) । आगणैति (भग ३, २) ।
सक्र 'हत्थि नमम्मि आगलेउण' (महा) ।

आगह वि [आगहान] ग्लान, बीमार (वृह १) ।

आगस सक [आ + कृप्] लीचना । आग-
साहि (आचा २, ३, १, १८) । सट्ट आग-
सिडं (विसे २०२) ।

आगह देखो आगाह । सक्र आगहइना (दव
५, १, ३१) ।

आगहिअ वि [आगृहीत] सगृहीत (विसे
२०४) ।

असोगा स्त्री [अशोका] १ इस नाम की एक इन्द्राणी (ठा ४, १) । २ भगवान् श्री शीतल-नाथ की शासनदेवी (पव २७) । ३ एक नगरी का नाम (पउम २०, १८६) ।

असोभण वि [अशोभन] असुन्दर, खराब (पउम ६६, १६) ।

असोय देखो असोग (भग, महा, रभा) ।

असोय पु [अश्वयुक्] आश्विन मास (सम २९) ।

असोय वि [अशौच] १ शौचरहित (महा) । २ न शौच का अभाव, अशुचिता । ३ वाइ वि [वादिन्] अशौच को ही माननेवाला (श्रोष ३१८) ।

असोयगया स्त्री [अशोचनता] शोक का अभाव (पक्वि) ।

असोया देखो असोगा (ठा २, ३, सति ६) ।

असोड्डिय वि [अपक्] कच्चा (उवा) ।

असोहि स्त्री [अशोधि] १ अशुद्धि । २ विरा-घना (श्रोष ७८८) । ३ ठाण न [स्थान] १ पाप-कर्म । २ अशुद्धि स्थान । ३ दुर्जन का ससर्ग । ४ अनायतन (श्रोष ७६३) ।

अस्स न [आस्य] मुक्क, मुँह (गा ९८६) ।

अस्स वि [अस्व] १ द्रव्यरहित, निर्बल । २ २ निर्गन्ध, साधु, मुनि (आचा) ।

अस्स पु [अश्व] १ घोडा (उप ७६८ टी) । २ अश्विनी नक्षत्र का अधिष्ठायक देव (ठा २, ३) । ३ ऋषि-विशेष (ज ७) । ४ कण्ण पु [कर्ण] १ एक अन्तर्द्वीप । २ इस अन्त-द्वीप का निवासी (एदि) । ३ कण्णी स्त्री [कर्णी] वनस्पति-विशेष (परण १) । करण न [करण] जहाँ घोडा रखने से आता हो वह स्थान, अस्तबल (आचा २, १०, १८) । ४ गीव पु [ग्रीव] पहले प्रति-वामुदेव का नाम (सम १०३) । ५ तर पु [तर] सचड (परण १) । ६ मुह पु [मुख] १-२ इस नाम का एक अन्तर्द्वीप और उसके निवासी (एदि, परण १) । ७ मेह पु [मेघ] यज्ञ-विशेष, जिममें अश्व मारा जाता है (प्रगु) । ८ सेण पु [सेन] १ एक प्रसिद्ध राजा, भगवान् पारश्वनाथ का पिता (पव ११) । २ एक महाग्रह का नाम (चन्द २०) ।

अय्यर पुं [अय्यर] विद्याधर वरा के एक राजा का नाम (पउम ५, ४२) ।

अस्स न [अस्स] १ अशु, आँसू । २ बधिर, बून (पक्र २६) ।

अस्सख वि [असंख्य] सख्या-रहित (उप १७) ।

अस्संगिअ वि [दे] आसक्त (षड्) ।

अस्सघयणि वि [असहननिन्] सहनन रहित, किसी प्रकार के शारीरिक बन्ध से रहित (भग) ।

अस्सजम देखो असजम (उव) ।

अस्सजय वि [अस्वयत] १ गुरु की आज्ञा-नुसार चलनेवाला, अस्वच्छदी (आ ३१) ।

अस्सजय देखो असजय (उव) ।

अस्संदम पु [अश्वन्दम] अश्व-पालक (सुपा ६४५) ।

अस्सच्च देखो असच्च, 'सुरिणो हवउ वयरा-मस्सच्च' (उप १४६ टी) ।

अस्सणिण देखो असणिण (विसे ५१६) ।

अस्सत्थ पुं [अश्वत्थ] वृक्ष-विशेष, पीपल (नाट) ।

अस्सत्थ वि [अश्वत्थ] रोगी, बीमार (सुर ३, १५१, माल ६५) ।

अस्सत्ति देखो असणिण (सुर १४, ६६, कम्म ४, २, ३) ।

अस्सम पु [आश्रम] १ स्थान, जगह । २ ऋषियों का स्थान (अभि ६६, स्वप्न २५) ।

अस्समिअ वि [अश्रमित] अमररहित, अन-भ्यासी (भग) ।

अस्सवार देखो असवार (सम्मत् १४२) ।

अस्सस अक [आ + इवस्] आश्वासन लेना । हेऊ अस्ससिदु (शौ) (अभि १२०) ।

अस्साइय वि [आस्वादित] जिसका आस्वादन किया गया हो वह (दे) ।

अस्साएमाग देखो अस्साय = आस्वादय् ।

अस्साद सक [आ + सादय्] प्राप्त करना । अस्सादेत्ति, अस्सादेत्तामो (भग १५) ।

अस्साद सक [आ + स्वादय्] आस्वादन करना ।

अस्सादण देखो अस्सायण (सुज १०, १६) ।

अस्सादिय वि [आसादित] प्राप्त किया हुआ (भग १५) ।

अस्साय देखो अरसाद = आ + सादय् ।

अस्साय देखो अस्साद = आ + स्वादय् । वऊ अस्साएमाग (भग १२, १) । वऊ अस्सायणिज्ज (एगाया १, १२) ।

अस्साय देखो असाय (कम्म २, ७, भग) ।

अस्सायण पु [आश्वायण] १ अश्व ऋषि का सतान (ज ७) । २ अश्विनी नक्षत्र का गोन (इक) ।

अस्सावि वि [आस्त्राविन्] भरता हुआ, टप-कता हुआ, संचिद्ध, 'जहा अस्साविणिण नाव जाइअधो दुक्कहए' (सूअ १, १, २) ।

अस्सास सक [आ + आसय्] आश्वासन देना, दिलासा देना । अस्सासमदि (शौ) (पि ४६०) । अस्सासि (उत्त २, ४०, पि ४६१) ।

अस्सासण पु [आश्वसन] एक महाग्रह (सुज २०) ।

अस्सि स्त्री [अश्रि] १ कोण, घर आदि का कोना (ठा ६) । २ तलवार आदि का अग्र-भाग—घार (उप ५६६) ।

अस्सि पु [अश्विन्] अश्विनी नक्षत्र का अश्वि-ष्ठायक देव (ठा २, २) ।

अस्सिणी स्त्री [अश्विनी] इस नाम का एक नक्षत्र (सम ८) ।

अस्सिय वि [आश्रित] आश्रय-प्राप्त, 'विराग-मेगमस्सिअ' (वसु, ठा ७, सया १८) ।

अस्सु पुन [अशु] आँसू, 'अस्सु' (सति १७) । अस्सु (शौ) न [अशु] आँसू (अभि ५९, स्वप्न ८५) ।

अस्सुक वि [अशुक्त] जिसकी चुगी या फीस माफ की गई हो वह (उप ५६७ टी) ।

अस्सुद (शौ) देखो असुय = अशुत (अभि १६३) ।

अस्सुय वि [अस्मृत] याद नहीं किया हुआ (भग) ।

अस्सेसा देखो असिलेसा (सम १७, विसे ३४०८) ।

अस्सोई स्त्री [आश्वयुजी] आश्विन मास की पूर्णिमा (चद १०) ।

अस्सोई स्त्री [आश्वयुजी] आश्विन मास की अमावस (सुज १०, ६ टी) देखो आसोया ।

अस्सोकता स्त्री [अश्वोत्क्रान्ता] सर्गोत्-शास्त्र प्रसिद्ध मध्यम ग्राम की पाचवी मूर्च्छना (ठा ७) ।

आचिकस सक [आ + चक्ष्] कहना ।
 कृ आचिकसणीय (स ४०) ।
 आचिकस्य वि [आख्यात] कथित, उक्त
 (स ११६) ।
 आचुण्णिअ वि [आचूर्णित] १ चूर-चूर
 किया हुआ (पठम १७, १२०) ।
 आचेलक न [आचेलक्य] १ वल का अभाव
 (कल्प) । २ वि आचार विशेष, 'आचेलको
 घम्मो' (पंचा) ।
 आच्छेदन न [आच्छेदन] १ नाश । २ वि
 नाशक (कुमा) ।
 आजत्थ दलो आगम + आ = गम । आजत्थइ
 (प्राकृ ७४) ।
 आजइ देखो आयाइ (ठा, स १७८) ।
 आजि देखो आइ = आजि (कुमा, दे १, ४६) ।
 आजीरण पु [आजीरण] स्वनामख्यात एक
 जैन मुनि, 'आजीरणो य गोत्रो' (संथा ६७) ।
 आजीव } पु [आजीव] १ आजीविका,
 आजीवग } जीवन निर्वाह का उपाय, 'आजी-
 वमेय तु अरुज्जमाणो पुणो पुणो पिप्परिया-
 सुवेति' (सूत्र) । २ जैन साधु के लिए भिक्षा
 का एक दोष—गृहस्थ को अपनी जाति, कुल
 आदि की समानता बतलाकर उससे भिक्षा
 ग्रहण करना (ठा ३, ४) । ३ गोशालक मत
 का अनुयायी साधु (पव) । ४ धन का समूह
 (सूत्र) ।
 आजीवग पु [आजीवक] १ धन का गर्व
 (सूत्र) । २ सकल जीव (जीव ३ टी) । देखो
 आजीवय ।
 आजीवण न [आजीवन] १ आजीविका,
 जीवन-निर्वाह का उपाय । २ जैन साधु के
 लिए भिक्षा का एक दोष (पव) ।
 आजीवणा ली [आजीवना] ऊपर देखो
 (दस, जीत) ।
 आजीवय देखो आजीवग, 'आजीवयदिट्ठेण
 चउरासीतिजातिकुलकोडीणिणपमुहयसहस्सा
 भवतीतिमक्खाया' (जीव ३) ।
 आजीविय वि [आजीविक] गोशालक के
 मत का अनुयायी (पण २०, उवा) ।
 आजीविश ली [आजीविश] १ निर्वाह
 (आव) । २ जैन साधु के लिए भिक्षा का एक
 दोष (उत्त) ।

आजुत्त वि [आयुक्त] अग्रमादी (निचू) ।
 आजुत्त अक [आ + युध्] लडना । हेक
 आजुत्तहुं (शौ) (वेणी १२४) ।
 आजुह न [आयुध] हथियार (मै २४) ।
 आजोज्ज देलो आओज्ज (विसे १५०३) ।
 आडवर पु [आडम्बर] १ आटोप, ऊपर
 दिखाव (पाम्र) । २ वाद्य की अ.पज (ठा) ।
 ३ यक्ष-विशेष (आडू) । ४ न यक्ष का मन्दिर
 (पव) ।
 आडवर पु [आडम्बर] वाद्य-विशेष, पटह
 (अणु १२८) ।
 आडवार्ल्ल वि [आडम्बरवत्] आडम्बरी
 (पाम्र) ।
 आडविय वि [दे] १ चूर्णित, चूर-चूर किया
 हुआ (षड्) ।
 आडविय वि [आटविक] जंगल में रहनेवाला,
 जंगली (स १२१) ।
 आडह सक [आ + दह्] चारों ओर से
 जलाना । आडहइ (पि २२२, २२३) । आड-
 हति (पि २२२, २२३) ।
 आडह सक [आ + धा] स्थापन करना,
 नियुक्त करना । आडहइ । सक्र आडहेत्ता
 (श्रीप) ।
 आडाडा ली [दे] बलात्कार, जबरदस्ती (दे
 १, ६४) ।
 आडासेतीय पु [आडासेतीक] पक्षि-विशेष
 (पण १, १) ।
 आडि ली [आटि] १ पक्षि-विशेष । २ मत्स्य-
 विशेष (दे ८, २४) ।
 आडियत्तिय पु [दे] शिविका-वाहक पुरुष
 (?) (स ५३७, ५४१) ।
 आडुआल सक [दे] मिश्र करना, मिलाना ।
 आडुआलइ (दे १, ६६) ।
 आडुआलि पु [दे] मिश्रता, मिलावट (दे १,
 ६६) ।
 आडोय देखो आडोव = आटोप (सुपा २६२) ।
 आडोलिय वि [दे] रुद, रोका हुआ (णामा
 १, १८) ।
 आडोव सक [आ + टोपय्] १ आडवर
 करना । २ पवन द्वारा फूलाना । आडोवेइ
 (भग) । सक्र आडोवेत्ता (भग) ।
 आडोव पु [आटोप] आडम्बर (उवा, सण) ।

आडोविअ वि [दे] आरोपित, गुस्ता किया
 हुआ (दे १, ७०) ।
 आडोविअ वि [आटोपिक] आटोपवाला,
 स्फारित (पण १, ३) ।
 आडई ली [आडकी] वनस्पति-विशेष (पण
 १) ।
 आडग पुन [आडक] १ चार प्रत्य (सेर) का
 एक परिमाण । २ चार सेर परिमित चीज
 (श्रीप, सुपा ६७) ।
 आडत्त वि [दे] आक्रान्त, 'एत्थतरम्मि विजय-
 वम्मनरवइणा आडत्तो लच्छिनिलयमामी सू-
 तेयो नाम नरवई (स १४०) ।
 आडत्त वि [आरन्ध] शूल किया हुआ, प्रारब्ध
 (श्रीप ४८२, हे २, १३८) ।
 आडत्तिअ } वि [आरन्ध] प्रारभ किया हुआ
 आडविअ } (मगल २३, वैद्य १४८) ।
 आडप्प^० देखो आडव ।
 आडय देखो आडग (महा, ठा ३, १) ।
 आडव सक [आ + रम्] आरभ करना,
 शुरु करना । आडवइ (हे ४, १५५, धम्म
 २२) । कर्म आडप्पइ, आडवीअइ (हे ४,
 २५४) ।
 आडा सक [आ + ट] आदर करना,
 मानना । आडाइ (उवा) । वक्र आडामाण,
 आडायमाण (पि ५००, आचा) । कवक
 आडज्जमाण (आचा) ।
 आडा ली [आदर] समान (पव २—गाया
 १५५, संवोध ५५) ।
 आडिअ वि [आदत्त] सत्कृत, सम्मानित
 (हे १, १४३) ।
 आडिअ वि [दे] १ इष्ट, अभीष्ट । २ गणनीय,
 माननीय । ३ अग्रमत्त, उद्युक्त । ४ गाड,
 निविड (दे १, ७४) ।
 आण सक [ङा] जानना, 'त्रिय न आणइ
 एम्' (से १३, ३) । आणमि (स १५, २८),
 'अमिअ पाइअकम्प पडिउ मोउ च जे ए
 आणति' (गा २) । आणे (अमि १६७) ।
 आण सव [आ + णी] लाना, मानयन
 करना, ले माना । आणइ (पि १७, मरि) ।
 वक्र आणमाणे (णामा १, १६) । ईउ
 आणियि (अन) (मवि) ।
 आण पुं [आन] १ श्यामोच्छ्रय, नाम ।
 २ श्याम के पुद्गल (पण १) ।

अव्यय—१ आमन्त्रण । २ लेद । ३ आश्रय ।
४ दुःख । ५, आधिक्य, प्रकर्ष (हे २, २१७,
आ १४, कप्, गा ६५६) ।

अहा अ [यथा] जैसे, माफिक, अनुसार (हे
१, २४५) । °अह्द वि [°अह्द] १
स्त्रच्छन्दी, स्वैरी (उप ८३३ टी) । २ न मरजी
के अनुसार (वव, २) । °जाय वि [°जाव]
१ तत्र, प्रावरण-रहित (हे १, १४५) । २ न
जन्म के अनुसार । ३ जैन साधुओं मे दीक्षा
काल के परिमाण के अनुसार किया जाता
वन्दन—नमस्कार (धर्म २) । °णुपुत्री ली
[°तुपूर्वा] यथात्मन, अनुक्रम (एयाया १, १,
पउम १, ८) । °तच्च न [°तत्त्व] तत्त्व के
अनुसार (भग २, १) । °तच्च न [°तथ्य]
सत्य-तथ्य (सम १६) । °पडिस्व वि
[°प्रतिरूप] १ उचित, योग्य (श्रौप) । २
क्ति यथायोग्य (विपा १, १) । °पवत्त वि
[°प्रयुत्त] १ पूर्व की तरह ही प्रवृत्त, अपरि-
वर्तित (एयाया १, ५) । २ न आत्मा का
परिणाम-विशेष (स ४७) । °पवित्तिरुण्य
न [°प्रवृत्तिरुण्य] आत्मा का परिणाम-
विशेष (कम्म ५) । °वायर वि [°वादर्]
निसार, सार-रहित (एयाया १, १) । °भूय
वि [°भूत्] तात्त्विक, वास्तविक (ठा १, १) ।
°राइणिय, °रायणिय न [°रात्तिक] यथा-
प्येठ, वडे के क्रम से (एयाया १, १, आचा) ।
°रीय न [°रुजु] सरलता के अनुसार
(आचा) । °रिह न [°हे] यथोचित (ठा २,
१) । २ वि उचित, योग्य (धर्म १) । °रीय
न [°रीत्] १ रीति के अनुसार । २ स्वभाव
के माफिक (भग ५, २) । °लड पु [°लन्द]
काल का एक परिमाण, पानी मे बीजा हुआ
नाम जितने समय मे सूख जाय उतना समय
(पप्य) । °वगास न [°वकाश] अवकाश
के अनुसार (सूय २, ३) । °वख वि [°पर्य]
पुर-स्थानीय (भग ३, ७) । °सयड वि
[°ससुत्त] शपन के योग्य (आचा) । °सवि-
भाग पु [°सविभाग] साधु को दान देना
(उमा) । °सच्च न [°सत्य] वास्तविकता,
मर्यादा (आचा) । °सत्ति न [°शक्ति] शक्ति
के अनुसार (पपु ५) । °सुत्त न [°सुत्र]
धाम के अनुसार (नम ८७) । °सुह न

[°सुख] इच्छानुसार (एयाया १, १, भग) ।
°सुहुम वि [°सुहूम] सारभूत (भग ३, १) ।
देखो अह° ।
अहालद वि [यथालन्द] यथानुज्ञात (काल),
इच्छानुसार (समय) (आचा २, ७, १, २) ।
अहालादि पु [यथालन्दिन] 'यथालन्द' अनु-
ष्ठान करने वाला मुनि (पव ७०) ।
अहासखड वि [दे] निष्कम्प, निश्चल (निचू
२) ।
अहासल वि [अहास्य] हास्य-रहित (सुपा
६१०) ।
अहाह अ [अहाह] देखो अहह (हे २,
२१७) ।
अहि देखो अभि (गडड, पात्र, पचव ४) ।
अहि अ [अधि] इन अथा का सूचक अव्यय—
१ आधिक्य, विशेषता, 'अहिगघ, अहिमास' ।
२ अधिकार, सत्ता; 'अहिगघ' । ३ ऐश्वर्य,
'अहिद्वारण' । ४ ऊँचा, ऊपर, 'अहिद्वार' ।
अहि पु [अहि] १ सर्प, साँप (परण १, प्रासू
१६, ३६, १०५) । २ शेष नाग (पिग) ।
°अह्ता ली [°अह्त्रा] नगरी-विशेष (एयाया
१, १६, ती ७) । °मड पुन [°मृतक] साँप
का मुर्दा (एयाया १, ६) । °वह पु [°पति]
शेष नाग (अचु ६०) । °विद्धिअ पु
[°वृद्धिक] सर्प के मूत्र से उत्पन्न होने वाली
वृश्चिक जाति (कुमा) ।
अहिअल न [दे] क्रोध, गुस्सा (दे १, ३६,
वड्) ।
अहिआअ न [अभिजात] कुलीनता, खान-
दानी (गा ३८) ।
अहिआइ ली [अभिजाति] कुलीनता
(वड्) ।
अहिआर पु [दे] लौक याना, जीवन-निर्वाह
(दे १, २६) ।
अहिउत्त वि [दे] व्यास, खचित (गडड) ।
अहिउत्त वि [अभिमुक्त] १ विद्वान्, परिउत्त ।
२ उज्यत, उद्योगी-पात्र) । ३ शत्रु से घिरा
हुआ (वेणी १२३ टि) ।
अहिऊर सक [अभि + पूर्य] पूर्ण करना,
व्यास करना । कर्म अहिऊरजति (गडड) ।
अहिकल सक [दह्] जलाना, दहन

करना । अहिकलइ (हे ४, २०८, पड्,
कुमा) ।
अहिओय पु [अभियोग] १ सन्ध (गडड) ।
२ दोपारोपण (म २२६) । देखो अभिओअ
(भवि) ।
अहिंद पु [अहीन्द्र] १ मर्षों का राजा,
शेष नाग (अचु १) । २ श्रेष्ठ सर्प (कुमा) ।
°धुर न [°पुर] वासुकि-नगर । °धुरणाह पु
[°पुरनाथ] विष्णु, अच्युत (अचु २६) ।
अहिसग वि [अहिसक] हिसा न करने
वाला (श्रौच ७४७) ।
अहिसण न [अहिसन] अहिंसा (धर्म १) ।
अहिसय देखो अहिसग (पह २, १) ।
अहिसा ली [अहिंसा] दूसरे को किसी प्रकार
से दुःख न देना (निचू २, धर्म ३, सूय १,
११) ।
अहिसिय वि [अहिसित] अमारित, अपी-
डित (सूय १, १, ४) ।
अहिकख देखो अभिकख वड् अहिकग
(पचव ४) ।
अहिकखिर वि [अभिकाक्षिन्] अभिलाषी,
इच्छुक (सण) ।
अहिकखि देखो अहिकखिर (सूय
२२) ।
अहिकय वि [अधिकृत] जिसका
चलता हो वह, प्रभुत्व (विसे १५८) ।
अहिकरण देखो अहिगरण (निचू ४) ।
अहिकरणी देखो अहिगरणी (ठा ८) ।
अहिकार देखो अहिगार (उत्त १४, १७) ।
अहिकारि देखो अहिगारि (रंभा) ।
अहिकिअ अ [अधिकृत्य] अधिकार
उद्देश्य कर (आचू १) ।
अहिकखण न [दे] उपालय, उलहना (८-
३५) ।
अहिक्लिखत वि [अधिक्लिख] १ तिरस्
२ निवृत्त । ३ स्थापित । ४ परित्यक्त
क्षिप्त (नाट) ।
अहिक्लिख सक [अधि + क्षिप्] १
तिरस्कार करना । २ फेंकना । ३ निवृत्त
४ स्थापित करना । ५ छोड़ देना । अहि
वड् (उव) । अहिक्लिखवाहि (स ३२६) ।
अहिक्लिखवत् (पचम,

आणाइत्त वि [आज्ञावत्] भ्राजा मानने-
वाला (पचा) ।

आणाइय वि [आनायित] मंगवाया हुआ
(कुमा २, २१) ।

आणापाण पु [आनप्राण] १ श्वासोच्छ्वास
(प्रासू १०४) । २ श्वासोच्छ्वास-परिमित
समय (अणु) । °पञ्जात्ति स्त्री [°पर्याप्ति]
श्वासोच्छ्वास लेने की शक्ति (भग ६, ४) ।
आणापाणु स्त्री [आनप्राण] ऊपर देखो,
'आणापाणुस्त्री' (भग २५, ५) ।

आणापाणुय पु [आनप्राणक] श्वासो-
च्छ्वास-परिमित काल (कण्) ।

आणापम पु [आनाम] श्वास, अन्त श्वास
(भग) ।

आणापिय वि [आनामित] १ थोड़ा नमाया
हुआ (परह १, ४) । २ अवीन किया हुआ
(पञ्चम ६८, ३७) ।

आणापु पु [आलाप] १ बन्धन । २ हाथी
बाँधने की रज्जु—डोरी । ३ जहाँ पर हाथी
बाँधा जाता है वह स्तम्भ, कील (हे २,
१७७, प्रामा) । °खम्भ, °खम्भ पुं
[°स्तम्भ] जहाँ हाथी बाँधा जाता है वह
स्तम्भ (हे २, ११७) ।

आणाव देखो आणव = आ + ञपय् । आणा-
वेइ (स १२६) । कवक, आणाविज्जत
(सुपा ३०३) । क आणावेयव्य (आचा) ।

आणाव सक [आ + नायय्] मंगवाना ।
आणावइ (भवि) । संक आणाविय
(नाट) ।

आणाव (अप) सक [आ + नी] लाना ।
आणावइ (प्राक १२०) ।

आणावण न [आनायन] दूसरे से मंगवाना,
'सयमारणयो पढमा बीया आणावणेण अन्नेहि'
(सवीव ७) ।

आणावण न [आज्ञापन] भ्राजा, हुकुम
(पड्) ।

आणाविय वि [आज्ञापित] जिसको हुकुम
किया गया हो वह, फरमाया हुआ (सुपा
२५१) ।

आणाविय वि [आनायित] मंगवाया हुआ
(सुपा ३६५) ।

आणि देखो आणी । कृ आणियव्व (रयण
६) । सक आणिय (नाट) ।

आणिअ वि [आनीत्] लाया हुआ (हे १,
१०१) ।

आणिअ [दे] देखो आदिअ (दे १, ७४) ।

आणिक्क वि [दे] टेढ़ा, वक्र (सि ६, ८६) ।

आणिक्क न [दे] तिर्यक् मैयुत्त- (दे १, ६१) ।

आणी सक [आ + नी] लाना । कर्म

आणीअइ (पि ५४८) । वक्क 'आणतीए

गुणेषु, बोसेसु परमुह कुणतीए' (मुद्रा २३६) ।

सक आणीय (विसे ६१६) । कवक

आणिज्जत (सुपा १६३) ।

आणीय वि [आनीत्] लाया हुआ (हे १,
१०१, काल) ।

आणुअ न [दे] १ मुल, मुँह (दे १, ६२,
पड्) । २ आकार, आकृति (दे १, ६०) ।

आणुओगिअ वि [आनुयोगिक] व्याख्या-
कर्ता (सुदि ५१) ।

आणुअपिय वि [आनुअम्पिक] दयालु, कृपालु
(राज) ।

आणुगामि वि [अनुगामिन्] नीचे देखो
(विसे ७३६) ।

आणुगामिय वि [आनुगामिक] १ अनुसरण
करनेवाला, पीछे-पीछे जानेवाला (भग) ।

२ न अवधिज्ञान का एक भेद (आवम) ।

आणुगुण } न [आनुगुण्य] १ औचित्य,
आणुगुण } अनुवृत्ता (पंचा ६, २६) । २
अनुकूलता (धर्मस ११८६) ।

आणुधम्मिय वि [आनुधम्मिक] इतर धर्म-
वालो को भी श्रभीष्ट, सर्वधर्म-मम्मत (आचा) ।

आणुपाणु देखो आणापाणु (कम्म ५, ४०) ।

आणुपुव्व न [आनुपुव्व्य] अनुक्रम, परिपाटी
(निर १, १) ।

आणुपुव्वी स्त्री [आनुपूर्वी] क्रम, परिपाटी
(अणु) । °णाम, °नाम न [°नामन्] नाम-
कर्म का एक भेद (सम ६७) ।

आणुलोमिअ वि [आनुलोमिक] अनुलोम,
अनुकूल, मनोहर (दस ७, ५६) ।

आणुचित्ति स्त्री [अनुवृत्ति] अनुसरण (न
६१) ।

आणुग पुन [अनूप] नजलप्रदेश (धर्मस
६२६) ।

आणुव पुं [दे] धपच, डोम (दे १, ६४) ।

आणे सक [आ + नी] लाना, ले भाना ।

आणेइ (महा) । कृ आणियव्व (सुपा
१६३) । सक आणेऊण (महा) ।

आणे सक [ज्ञा] जानना । आणेइ (नाट) ।

आणेसर देखो आणा-ईसर (आ १०) ।

आत देखो आय = आत्मन् (ठा १) ।

आतव देखो आयव = आताम्र (स २६१) ।

आतित्य देखो आइत्य (कुप १००, २८६) ।

आत्त देखो अत्त = आत्मन्, 'आतहिय पु
दुहेण लम्भइ' (सुम १, २, २, ३०) ।

आत्त देखो अत्त = आत्त (अणु २१) ।

आत्त वि [आत्मीय] स्वकीय (अणु २१) ।

आदस } देखो आयस (गा २०४, प्रति
आदसग } न, सूत्र १, ४) ।

आद (शौ) देखो अत्त = आत्मन् (अव्य ६) ।
आद देखो आइ = आ + दा । आदए (सुम १,
८, १६) ।

आदण्ण } वि [दे] आकुल, व्याकुल, धव
आदण्ण } डया हुआ (उप पृ २२१, हे ४,
४२२) ।

आदयाण वि [आददान] ग्रहण करता हुआ
(श्रु १३८) ।

आदर देखो आउर = आ + द । आदरइ (हे
४, ८३) ।

आदरिस देखो आयस (कुमा, दे २, १०७) ।

आदाउ वि [आदाउ] ग्रहण करनेवाला
(विसे १५६८) ।

आदाण देखो आयाण (ठा ४, १), 'गन्ना-
दाणेण सजुयानि तुम' (पञ्चम ६५, ६०, उवा) ।

आदाण न [आद्रहण] उवाला हुआ, गरम
किया हुआ (जल तैल आदि) (उवा) ।

आदाणिय न [आदाणीय] लाभ, नफा (मुन
४, ६) ।

आदाणीय देखो आयाणीय (कण्) ।

आदाय देखो आया = आ + दा ।

आदि देखा आइ = आदि (कम्म, सूत्र १, ५) ।

आदिच्च देनो आदच्च (ठा ५, ३, ८) ।

आदिच्छा स्त्री [आदिस्सा] ग्रहण करने ती
इच्छा (आव) ।

आदिज्ज देनो आपज्ज (भग) ।

आदिट्ट देता आडट्ट (अभि १०८) ।

आदिच्च देनो आदच्च (पञ्च १३८) ।

अहिट्टाण न [अधिष्ठान] १ वैठना (निबू ५) । २ आश्रयण (सुअर, २, ३) । ३ मालिक बनना (आचा) । ४ स्थान, आश्रय (स ४६६) ।

अहिट्टायग वि [अधिष्ठायक] अघ्यक्ष, अघि-पति (कुप्र २१६) ।

अहिट्टावण न [अधिष्ठापन] ऊपर रखना (निबू ५) ।

अहिट्टिय वि [अधिष्ठित] १ अघ्यासित (शाया १, १४) । २ अघीन किया हुआ (शाया १, १४) । ३ आक्रान्त, आविष्ट (ठा ५, २) ।

अहिट्टाण न [अधिष्ठान] अपान-प्रवेश (पव १३५) ।

अहिट्टुय वि [दे. अभिट्टुत] पीडित, 'अहिट्टुय पीडिअ परद्ध व' (पाअ) ।

अहिणद देखो अभिणंद । वक्क अहिणद-माण (पउम ११, १२०) कवक अहिणं-दिज्जमाण, अहिणदीअमाण (नाट, पि ५६३) ।

अहिणंदण देखो अभिणंदण (पउम २०, ३०, भवि) ।

अहिणदि वि [अभिनन्दिन्] आनन्द मानने वाला (स ६७७) ।

अहिणदिय देखो अभिणंदिय (पउम ८, १२३, स १४) ।

अहिणय देखो अभिणय (कप्पू, सण) ।

अहिणव पु [अभिनव] १ सेतुवन्व काव्य का कर्ता राजा प्रवरसेन (से १, ६) । २ वि नूतन, नया (शाया १, १, सुपा ३३०) ।

अहिणवेमाण देखो अहिणी ।

अहिणवेमाण देखो अहिणु ।

अहिणाण देखो अहिणणाण (भवि) ।

अहिणिवोह पु [अभिनिवोध] ज्ञान-विशेष, मतिज्ञान (परण २६) ।

अहिणिवस सक [अभिनि + वस्] वसना, रहना । वक्क अहिणिवसमाण (सुद्रा २३१) ।

अहिणिविट्ठ वि [अभिनिविट्ठ] आग्रह-अस्त (स २७३) ।

अहिणिवे : पुं [अभिनिवेश] आग्रह, हठ (स ६२३, भवि ६५) ।

अहिणिवेसि वि [अभिनिवेशिन्] आग्रही (पि ४०५) ।

अहिणी स्त्री [अहि] नागिन (वज्जा ११४) । अहिणी देखो अभिणी वक्क अहिणवेमाण (सुर ३, १५०) ।

अहिणील वि [अभिनील] हरा, हरा रग वाला (गउड) ।

अहिणु सक [अभि + नु] स्तुति करना, प्रशसना । वक्क अहिणवेमाण (सुर ३, ७७) ।

अहिण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित, अपृथग्भूत (गा २६५, ३८०) ।

अहिण्णाण न [अभिज्ञान] चिह्न, निशानी (भवि १३) ।

अहिण्णु वि [अभिज्ञ] निपुण, ज्ञाता (हे १, ५६) ।

अहितत्त वि [अभितप्त] तापित, सतापित (उत्त २) ।

अहिच्चा देखो अहिज्ज = अघि + इ ।

अहिदायग वि [अभिदायक] देने वाला, दाता (सुपा ५४) ।

अहिदेवया स्त्री [अधिदेवता] अघिष्ठाता देव (सुपा ६०, कप्पू) ।

अहिद्व सक [अभि + द्व] हैरान करना । अहिद्ववति (स ३६३) । भवि अहिद्वविसइ (स ३६६) ।

अहिद्वुय वि [अभिद्रुत] हैरान किया हुआ (स ५१४) ।

अहिवाच सक [अभि + धाव्] दौडना, सामने दौड कर जाना । वक्क अहिधावत (से १३, २६) ।

अहिनाण } देखो अहिण्णाण (आ १६, सुपा
अहिन्नाण } २५०) ।

अहिनिवेस देखो अहिणिवेस (स १२५) ।

अहिपच्चुअ सक [अह्] ग्रहण करना । अहिपच्चुअइ (हे ४, २०६, पड) । अहि-पच्चुअति (कुमा) ।

अहिपच्चुअ सक [आ + गम्] आना । अहि-पच्चुअइ (हे ४, १६३) ।

अहिपच्चुइअ वि [आगत] आयात (कुमा) । अहिपच्चुइअ न [दे] अनुगमन, अनुसरण (दे १, ४६) ।

अहिपड सक [अभि + पत्] सामने आना । अहिपडति (पव १०६) ।

अहिपास सक [अधि + ट्ठ] १ अघिक

देखना । २ समान रूप से देखना । अहिपासए (सुअ १, २, ३, १२) ।

अहिप्पाय देखो अभिप्पाय (महा, कप्पू) । अहिप्पेय देखो अभिप्पेय (उप १०३१ टी-स ३४) ।

अहिभव देखो अभिभव (गउड) ।

अहिमज्जु पु [अभिमन्थु] अजुंन के एक पुत्र का नाम (कुमा) ।

अहिमतण वि [अभिमन्त्रण] मन्त्रित करना, मन्त्र से सत्कारना (भवि) ।

अहिमतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन्त्र से सत्कृत (महा) ।

अहिमज्जु }
अहिमण्णु } देखो अहिमज्जु (कुमा, पड) ।
अहिमन्नु }

अहिमय वि [अभिमत] समत, इष्ट (स २००) ।

अहिमयर पु [अहिमकर] सूर्य, रवि (पाअ) ।

अहिमर पुं [अभिमर] घनादि के लोभ से दूसरे को मारने का साहस करने वाला (सुर १, ६८) । २ गजादिघातक (विसे १७६४) ।

अहिमाण पुं [अभिमान] गर्व, अहंकार (प्रासू १७, सण) ।

अहिमाणि वि [अभिमानिन्] अभिमानी, गर्विष्ठ (स ४३१) ।

अहिमार पु [अभिमार] वृक्ष-विशेष, 'एणं अहिमारदारुअ अग्गी' (उत्तनि ३) ।

अहिमास } पु [अधिमास, 'क] अघिक
अहिमासग } मास (आव १, निबू २०) ।

अहिमुह वि [अभिमुख] समुख, सामने रहा हुआ (से १, ४४, पउम ८, १६७, गउड) ।

अहिमुहिह्वअ } वि [अभिमुखीभूत] सामने
अहिमुदीह्वअ } आया हुआ (पउम १२, १०५
४५, ६) ।

अहिय वि [अधिक] १ ज्यादा, विशेष (औप-जी २७, स्वप्न ४०) । २ क्विबि बहुत, अत्यन्त (महा) ।

अहिय वि [अहित] अहितकर, शत्रु, दुश्मन (महा, सुपा ६६) ।

अहिय वि [अधीत] पठित, अभ्यस्त, 'अहिय-सुओ पडिवजिय एगल्लविहारपडिम सो' (सुर ४, १५४) ।

अहिवण्ण वि [दे] पीला और लाल रंग वाला (दे १, ३३) ।
 अनिवण्णु } देखो अहिमजु (षड्, कुमा ।
 अहिवन्नु }
 अहिवल्ली स्त्री [अहिवल्ली] नाग-वल्ली (सिरि ८७) ।
 अहिवस सक [अधि + वस्] निवास करना, रहना । वक्तु अहिवसत्त (स २०८) ।
 अहिवाइय वि [अभिवादि] अभिनन्दित (स ३१४) ।
 अहिवायण देखो अभिवायण (भवि) ।
 अहिवाल वि [अधिपाल] पालक, रक्षक (भवि) ।
 अहिवास पु [अधिवास] वासना, सस्कार (दे ७, ८७) ।
 अहिवासण न [अधिवासन] सस्कारावान (पचा ८) ।
 अहिवासि वि [अधिवासिन्] निवासी (वेद्य ६८७) ।
 अहिवासिअ वि [अधिवासित] सजाया हुआ, तय्यार किया हुआ (दस ३, १ टी) ।
 अहिविण्णा स्त्री [दे] कृत-सापल्या स्त्री, उप-पत्नी (दे १, २५) ।
 अहिसका स्त्री [अभिशङ्का] भ्रम, सदेह (पउम ४२, २१) ।
 अहिसका स्त्री [अभिशङ्का] भय, डर (सूत्र १, १२, १७) ।
 अहिसजमण न [अभिसयमन] नियन्त्रण (गउड) ।
 अहिसधारण न [अभिसधारण] अभिप्राय (पचा ६, ३६) ।
 अहिसधि पुत्री [अभिसधि] अभिप्राय, श्रायण (पह १, २, स ४६३) ।
 अहिसधि पु [दे] बारवार (दे १, ३२) ।
 अहिसकण पुन [अभिष्वकण] समुच्च गमन (पव २) ।
 अहिसर सक [अभि + स्] १ प्रवेश करना । २ अपने दयित—प्रिय के पास जाना । प्रयो, कर्म अभिमारीप्रदि (सौ) (नाट) । हेक्क अभि-सारट्टु (सौ) (नाट) ।
 अहिसरण न [अभिसरण] प्रिय के समीप गमन (स ५३३) ।

अहिसरिअ वि [अभिस्त] १ प्रिय के समीप गत । २ प्रविष्ट (आवम) ।
 अहिसरण न [अविसहन] सहन करना (ठा ६) ।
 अहिसाअ देखो अक्कम = आ + कम् । अहि-साअइ (प्राक् ७३) ।
 अहिसाम वि [अभिशाम] काला, कृष्ण वर्ण वाला (गउड) ।
 अहिसाय वि [दे] पूर्ण, पुरा (दे १, २०) ।
 अहिसारण न [अभिसारण] १ आनयन (से १०, ६२) । २ पति के लिए संकेत स्थान पर जाना (गउड) ।
 अहिसारिअ वि [अभिसारित] आनीत (से १, १३) ।
 अहिसारिआ स्त्री [अभिसारिका] नायक को मिलने के लिए संकेत स्थान पर जानेवाली स्त्री (कुमा) ।
 अहिसिअ न [दे] १ अग्निष्ट ग्रह की आशका से खेद करना—रोना (दे १, ३०) । २ वि. अग्निष्ट ग्रह से भयभीत (षड्) ।
 अहिसिअ देखो अभिसिअ । अहिसिअइ (महा) । सक अहिसिअइण (स ११६) ।
 अहिसिअण न [अभिषेचन] अभिषेक (सम १२५) ।
 अहिसिअत देखो अभिसिअत (महा, सुर ८, ११६) ।
 अहिसिअत देखो अभिसिअ (सुपा ३७, नाट) ।
 अहिसोड वि [अधिसोड] सहन किया हुआ (उप १४७ टी) ।
 अहिससग पु [अभिष्वङ्ग] आसक्ति (नाट) ।
 अहिसह्य वि [अभिहत] १ आघात-प्राप्त (से ५, ७७) । २ मारित, व्यापादित (से १४, १२) ।
 अहिसर सक [अभि + ह] १ लेना । २ उठाना । ३ अक शोभना, विराजना । ४ प्रतिभाष्य होना, लगना, 'वीयाभरणा अकयएणमडणा अहिसरति रमणीओ । सुएणाओ व कुसुमफलतरम्मि सहयारवल्लीओ । इह हि हलिहाहयदविडसा- मलीगडमडलानील ।

फलमसअलपरिणामावलवि
 अहिसरइ च्याण' (गउड) ।
 अहिसर न [दे] १ देवकुल, पुराना देवमन्दिर । २ वल्मीक (दे १, ५७) ।
 अहिसर सक [अभि + भू] पराभव करना, जीतना । अहिसरति (स १६८) कर्म अहिस-वीयति (स ६६८) ।
 अहिसाण न [दे अभिधान] वरुण, प्रशसा (दे १, २१) ।
 अहिसाण देखो अभिसाण (स १६५, गउड, सुर ३, २५, पात्र) ।
 अहिसू देखो अहिसू । कवक अहिसूअमाण (अभि ३७) ।
 अहिसूअ वि [अभिभूत] पराभूत, परास्त (दे १, १५८) ।
 अही सक [अधि + इ] पठना । कर्म अही-यइ (विसे ३१६६) ।
 अही स्त्री [अही] नागिन, सर्पिणी (जीव २), अहीकरण न [अधिकरण] कलह, भगडा (निचू १०) ।
 अहीगार देखो अहिसार, 'सेसेसु अहीगारो, ज्वगरणसरीरमुक्खेसु' (आचानि २९४) ।
 अहीण वि [अधीन] आर्यत, अधीन (पह २, ४) ।
 अहीण वि [अ-हीन] अन्वय, पूर्ण (विपा १, १, उवा) ।
 अहीय देखो अहिय = अधिक (पव १६४) ।
 अहीय वि [अधीत] पठित, अभ्यस्त, 'वेया अहीया ए भवति ताए' (उत्त १५, १२, एया १, १४, सं ७८) ।
 अहीरग वि [अहीरक] तन्तुरहित (फलादि) (जी १२) ।
 अहीरु वि [अभीरु] निडर, निर्भीक (भवि) ।
 अहीलास देखो अहिलास, 'देहम्मि अहिलासो' (तदु ४१) ।
 अहीसर पु [अधीश्वर] परमेश्वर (प्रामा) ।
 अहुआसेय वि [अहुताशेय] अग्नि के अयोग्य (गउड) ।
 अहुणा अ [अधुना] अभी, इस समय, आज-कल (ठा ३, ३, नाट) ।
 अहुणि (पै) देखो अहुणा (प्राक् १२७) ।
 अहुलण वि [अमार्जक] अनाशक (कुमा) ।

रखनेवाला, मन और इन्द्रियो का निग्रह करने-
वाला । २ अथ आदि को सयत रहने को
सिखानेवाला (ठा ४, २) ।

आयप पु [आकम्प] १ कौपना, हिलना ।
२ कौपानेवाला (पउम ६६, १८) ।

आयपिय वि [आकम्पित] कौपाया हुआ (स
३५३) ।

आयव अक [वेप्] कौपना, हिलना ।
श्रायवह (हे ४, १४७) ।

आयव } वि [आताम्र] थोडा लाल
आयबिर } (ओप, सुर ३, ११०, सुपा ६,
१४४) ।

आयविल न [आचाम्ल] तपो-विशेष, आविल
(णाय १, ८) । °वड्डमाण न [°वधेमान]
तपश्चर्या-विशेष (अत ३२, महा) ।

आयविलिय वि [आचाम्लिक] आम्विल-तप
का कर्ता (ठा ७, पएह २, १) ।

आयभर } वि [आत्मभरि] स्वार्थी, अकेल-
आयभरि } पेट (ठा ४, ३) ।

आयव अक [आ + कम्प्] कौपना, हिलना
(प्राप्ता) ।

आयस } पु [आदर्श] १ दर्पण (पएह १, ४,
आयसग) सूत्र १, ५) । २ वैल आदि के गले
का भ्रूण-विशेष (अणु) । °सुह पु [°मुख] १
एक अन्तर्द्वीप । २ उसके निवासी मनुष्य (ठा
४, २) ।

आयकए देखो आइकए । श्रायक्खाहि (भग) ।
अयम वि [आजरु] देखो आय = आज
(आचा) ।

आयज्भ अक [वेप्] कौपना, हिलना ।
श्रायज्भइ (हे ४, १४१, पड्) । वक
आयज्भंत (कुमा) ।

आयट्ट सक [आ + वत्तय्] १ फिराना,
घुमाना । २ उबालना । वक आअट्ट (से
५ ७५, ८, १६) । कवक आयट्टिजमाण
(णाय १, ६) ।

आयट्टण न [आवत्तन] फिराना (सुपा ५३०) ।

आयड्ड सक [आ + कृप्] खीचना ।
श्रायड्डइ (महा) । कवक आअड्डिज्जत (ने
५, २८) । सक आयड्डिऊण (महा) ।

आयड्डण न [आकर्षण] आकर्षण, खींचाव
(सुपा १२, ७६, गा ११८) ।

आयड्डि ली [आकृष्टि] ऊपर देखो (गउड,
दे ६, २१) ।

आयड्डि पु [दे] विस्तार (दे १, ६४) ।

आयड्डिह वि [आकृष्ट] खींचा हुआ (काल,
कप्पू) ।

आयण सक [आ + ऋण्य्] सुतना,
श्रवण करना । आअणणेइ (गा ३६५) । वक
आअणणत (से १, ६५, गा ४६५, ६४३) ।
सक आयण्णिऊण (उवा) ।

आयण्णण न [आकर्णन] श्रवण (महा) ।

आयण्णिय वि [आकर्णित] सुना हुआ
(उवा) ।

आययत वक [आददत्] ग्रहण करता
हुआ (सूत्र २, १) ।

आयत्त वि [आयत्त] अधीन, स्ववश (गा
३७६) ।

आयत्त देखो आयण्ण । वक आयत्तन (सुर
१, २४७) ।

आयत्तण देखो आयण्णण (सुर ३, २१०) ।

आयम सक [आ + चम्] आचमन करना,
कुल्ला करना । हेक आयमित्तए (कप्पू) ।
वक आयममाण (ठा ५) ।

आयमग न [आचमन] शुद्धि, शौच (श्रा
१२, गा ३३०, निचू ३, स २०६, २५२) ।

आयमिअ देखो आगमिअ (हे १, १७७) ।

आयमिगी ली [आयमिनी] विद्या-विशेष
(सूत्र २, २) ।

आयय वि [आयत्त] १ लम्बा, विस्तृत (उवा,
पउम ८, २१५) । २ पु मोक्ष (सूत्र १, २) ।

आयय सक [आ + दट्] ग्रहण करना ।
श्रायए, श्राययति (दस ५, २, ३१, उत ३,
७) । वक श्राययमाण (पिड १०७) ।

आययण न [आयतन] १ प्रकटीकरण (सूत्र
१, ६, १६) । २ उगादान कारण (सूत्र १,
१२, ५) ।

आययण न [आयतन] १ घर, गृह (गउड) ।
२ श्रायय, स्थान (आचा) । ३ देव-मन्दिर
(श्रावम) । ४ धार्मिक जनों का एकत्र होने
का स्थान,

'जल्य साहम्मिया बहुवे नीनवता बहुमुया ।
चरितायारनयएणा श्राययण न नियाण ट्ट'
(धम्म) । ५ दर्शन-वच्य का कारण (प्राप्ता) ।

६ निर्णय, निश्चय (सूत्र १, ६) । ७ निर्दोष
स्थान (सार्ध १०६) ।

आयर सक [आ + चर] आचरना, करना ।
श्रायरइ (महा, उव) । वक आयरत,
आयरमाण (भग) । क आयरियव (स १) ।
आयर पु [आकर] १ खानि, दान । २ समूह
(काल, कप्पू) ।

आयर देखो आयार = आचार (पुष्प ३५६) ।
आयर पु [आदर] १ सत्कार, सम्मान
(गउड) । २ परिग्रह, अस्तोप (पएह १, ५) ।
३ रयाल, सभाल (कप्पू) ।

आयरग पु [आयरङ्ग] इस नाम का एक
म्लेच्छ राजा (पउम २७, ६) ।

आयरण न [आचरण] प्रवृत्ति, अनुष्ठान (पडि) ।

आयरण न [आदरण] आदर (भग १२, ५) ।

आयरणा ली [आचरणा] परपरा का रिवाज
(चेइय २५) ।

आयरणा ली [आचरणा] आचरण, अनुष्ठान
(सट्ठि १४५, उवर १४५) ।

अयरिय वि [आचरित] १ अनुष्ठित, विहित,
कृत (उवा) । २ न शास्त्र-सम्मत चाल-चरन,
'असट्ठेण ममाइल्ल ज कल्लइ केएइ असायज्ज' ।
न निवारियमन्नेहि य, बहुमणुमणमेयमापरिय'
(उप ८१३) ।

आयरिय पु [आचार्य] १ गण का नायक,
मुनिया (श्रावम) । २ उपदेशक, गुरु, शिक्षक
(भग १, १) । ३ अर्थ पढ़ानेवाला (ना
८, ८) ।

आयरिस देना आजम (ह २, १०५) ।

आयल्ल अक [लम्ब] १ व्याप्त गता । २
लटपना, किम्वनाउ गति ओएल्ल, परि-
मोएनु नियवि आयल्लइ (भवि) ।

आयल्लया ली [ट] वेनीती, 'मयरामगट्टि-
रियमी महमा श्रायज्जय पत्ता' (पउम ८,
१८६), 'जिडा अणुगवागेट्टि' इति श्रायल्लयं
पत्तो' (सुर १६, ११०), 'जि उण निदर-
अम्म मयणाअज्जय अतागा उदर' श्रायल्लयं
एण्डेदिमि' (कप्पू) । उओ श्राअल्ल ।

आयल्लिय वि [दे] पागल, ध्यान (उप
१०३१ टी, भवि) ।

आयव पु [आनपपन] भोग्य का उदर
द्वार (सुत्र १०, १३) ।

आ प्र [आ] नोचे, अघ (राय ३५, ३६) ।
 आ प्र [आस्] इन प्रथों का सूचक अव्यय—
 १ खेद (गा ६२६) । २ दुःख । ३ गुस्ता,
 क्रोध (कप्प) ।
 आ सक [या] णना । 'अव्वो ए अमि खेत'
 (गा ८२१) ।
 आअ वि [दे] १ अत्यद, बहुत । २ दीर्घ,
 लम्बा । ३ विषम, कठिन । ४ न लोह,
 लोहा । ५ मुखल, मूषल (दे १, ७३) ।
 आअ वि [आगत] आया हुआ, 'पत्थति
 आप्ररोसा' (से १२, ६८, कुमा) ।
 आअअ वि [आगत] आया हुआ (से ३, ४,
 १२, १८, गा ३०१) ।
 आअअ वि [आयत्] लम्बा, विस्तीर्ण (से
 ११, ११),
 'मणयसुईविद्व व मोत्तिअ पिअइआअअगीवो ।
 मोरो पाउसआले तणगलगल उअअबिदु'
 (गा ३६४) ।
 आअअ सक [कृप्] १ क्षीचना । २ जोतना,
 चास करना । ३ रेखा करना । आअअइ (पड्) ।
 आअतव्व देखो आगम = आ + गम् ।
 आअतुअ देखो आगंतुअ (स्वन् २०, अमि
 १२१) ।
 आअपिअ देखो आकपिय (से १०, ५१) ।
 आअव वि [आताअ] थोडा लाल (से ६, ३१,
 सुर ३, ११०) ।
 आअव पु [कादम्ब] हंस, पक्षि-विशेष (से
 ६, ३१) ।
 आअमअ सक [आ + चच्] कहना,
 बोलना, उपदेश करना । आअअवाहि (भग) ।
 कर्म आअअवीअदि (शौ) (नाट) । भूक. आअ-
 अदि (शौ) (नाट) ।
 आअअअ देखो आगच्छ । आअअअइ (पड्) ।
 नक्क आअअअअ, आअअअअण (नाट,
 पि ५८१, ५८४) ।
 आअअअ अक [दे] परवश होकर चलना ।
 आअअइ (दे १, ६६) ।
 आअअअ अक [व्या + घृ] व्यापृत होता, काम
 में लगना । आअअइ (सण, पड्) । आअअइ
 (दे ४, ८१) ।
 आअअअ वि [दे] परवशचलित, दूसरे की
 प्रेरणा से चला हुआ (दे १, ६८) ।

आअअअ वि [व्यापृत] कार्य में लगा हुआ
 (कुमा) ।

आअअणण देखो आयअण (गा ६५६) ।

आअअत्ति देखो आयइ (पिण) ।

आअअ देखो आगय (प्राक्क १२, सकि ६) ।

आअअ देखो आगम (अक्कु ७, अमि १८४,
 गा ४७६, स्वन् ४८, मुद्रा ८३) ।

आअअमण देखो आगमण (से ३, २०, मुद्रा
 १८७) ।

आअअर सक [आ + ह] आअर करना, सत्कार
 करना । आअअरइ (पड्) ।

आअअर न [दे] १ उद्वलन, उखल । २ कूर्च
 (दे १, ७४) ।

आअअअ पु [दे] १ रोग, बीमारी (दे १, ७५,
 पाअ) । २ वि चंचल, चपल (दे १, ७५) ।
 देखो आयअअय ।

आअअअलि [दे] श्री भाडी, लताश्री से निविड
 आअअली प्रदेश (दे १, ६१) ।

आअअअअ अक [वेप्] कांपना । आअअअअ
 (पड्) ।

आअअअमि देखो आगामि (अमि ८१) ।

आअअअस देखो आयस (पड्) ।

आअअअसतअ [दे] देखो आयासतअ (पड्) ।

आइ सक [अ + दा] ग्रहण करना, लेना ।

आइअजा (सुअ १, ७, २६) । आइअत्ति (भग) ।

कर्म आइअइ (कस) । सक आइअत्तूण,

आयइत्ता, आइअत्तु (आचा, सुअ १, १२,
 पि ५७७) । प्रयो आइअवेत्ति (सुअ २, १) ।

क. आइअअ (कस) ।

आइ पु [आदि] १ प्रथम, पहला (सुर २,
 १३२) । २ वगैरह, प्रभृति (बो ३) । ३

समीप, पास । ४ प्रकार, भेद । ५ अवयव,
 अंश । ६ प्रधान, मुख्य, 'इअआससत्ति निसीह' ।

सिंहवत्ताइणो विआ तुचक' (कुमा, सुअ १,
 १५) । ७ उत्पत्ति (सम्म ६५) । ८ ससार,

दुनया (सुअ १, ७) । *गर वि [कर] १

आदि प्रवर्तक (सम १) । २ पु भगवान्

अपभवेव (पउम २८, ३६) । *गुण पु [गुण]

सहभावी गुण (आच ४) । *णाह पु [नाथ]

भगवान् अपभवेव (आवम) । *तिरथयर पु

[तीर्थकर] भगवान् अपभवेव (एदि) ।

*देव पु [देव] भगवान् अपभवेव (सुर २,

१३२) । *म पु [म] प्रथम, आद्य, पहला

(आच ५) । *मूल न [मूल] मुख्य कारण

(आचा) *भोक्ख पु [भोक्ख] ससार से

छुटकारा, मोक्ष । २ शीघ्र ही मुक्त होने वाली

आत्मा, 'इत्थोओ जे ए सेवति आइमोक्खा

हि ते जणा' (सुअ १, ७) । *राय पु [राज]

भगवान् अपभवेव (ठा ६) । *वराह पु

[वराह] कृष्ण, नारायण (से ७, २) ।

आइ वि [आदिन्] खानेवाला (पंचा १८,

३६) ।

आइ खी [आजि] सग्राम, लडाई (सथा) ।

आइअंतिअ देखो अच्चतिय (भग १२, ६) ।

आइ प्र [दे] वान्य की शोभा के लिए प्रयुक्त

क्रिया जाने वाला अव्यय (भग ३, २) ।

आइअगगा } खी [दे] १ देवता विशेष,

आइअगिया } कर्ण-पिशाचिका देवी (पव

आइअगिया } २, ७३ टी—पत्र १८२, वृह

१) । २ जमिनी, चाडाली (वृह १) ।

आइअग न [दे] वाद्य-विशेष (पउम ३, ८७

६६, ६) ।

आइअच देखो आयअ । आइअइ (उवा) ।

आइअच देखो अक्कम = आ + कम् । आइअच

(प्राक्क ७३) ।

आइअचवार पु [आदित्यवार] रविवार (कुप्र

४११) ।

आइअचिय वि [आदित्यिक] आदित्य-सबन्धी

(सुअनि ८ टी) ।

आइअअ देखो आअअ । आइअअइ (हे ४, १८७) ।

आइअअअ सक [आ + चच्] कहना, उप-

देश देना, बोलना, आइअअइ (उवा) । नक्क

आइअअअमाण (एया १, १२) । हेक्क. आइ-

अअअअ (उवा) ।

आइअअअ वि [आख्यायक] कहनेवाला,

वक्ता (पएह २, ४) ।

आइअअअ न [आख्यायन] कथन, उपदेश

(वृह ३) ।

आइअअअ वि [आख्यायत] उक्त, उपविष्ट

(स ३२) ।

आइअअअअ खी [आख्यायिका] १ वार्ता,

कहानी (एया १, १) । २ एक प्रकार की

मैत्री विद्या, जिसमें चार डालिनी भूत-काल आदि

की परोक्ष बातें कहती हैं (ठा ६) ।

आइअअ वि [आविअ] उद्धि, खिन्न (पाअ) ।

आयासइत्तिअ वि [आयासयित्] तकलीफ देनेवाला (अभि ६३) ।

आयासतल न [आकाशतल] चन्द्रशाला, घर के ऊपर की खुली छत (कुप्र ४५२) ।

आयासतल न [दे] प्रासाद का पृष्ठ भाग (दे १, ७२) ।

आयासलव न [दे] पक्षिगृह, नोड (दे १, ७२) ।

आयासिअ वि [आयासित] परिश्रान्त, खिन्न (गा १६०) ।

आयाहम्म वि [आत्मह] १ आत्मविनाशक । २ न आघातकर्म दोष (गड ६५) ।

आयाहिण न [आदक्षिण] दक्षिण पार्श्व से भ्रमण करना (उवा) । १ पयाहिण वि [प्रदक्षिण] उदक्षिण पार्श्व से भ्रमण कर उदक्षिण पार्श्व में स्थित होनेवाला (विपा १, १) । २ पयाहिणा स्त्री [प्रदक्षिणा] दक्षिण पार्श्व से परिभ्रमण, प्रदक्षिणा (ठा १) ।

आयु देखो आड = आयुप् । १ वत वि [वत्] चिरायुष्क, दीर्घ आयुवाला (परह १, ४) ।

आर पु [आर] १ इह-लोक, यह जन्म (सूअ १, २, १, ८, १६, २८, १, ८, ६) । २ मनुष्य-लोक (सूअ १, ६, २८) । ३ नुकीली लोहे की कील (कुप्र ४३४) । ४ न गृहस्थपन (सूअ १, २, १, ८) ।

आर पु [आर] १ मगल-ग्रह (पउम १७, १०८, मुर १०, २२४) । २ चौथा नरक का एक नरकावास (ठा ६) । ३ वि अर्वाकितन, पूर्व का (सूअ १, ६) ।

आरअ वि [आरक] कर्ता, करनेवाला (गा १७६, ३४८) ।

आरओ अ [आरतस्] १ पूर्व, पहले, अर्वाक् (सुअ १, ८, स ६४३) । २ समीप में, पास में (उप ३३१) । ३ शुरू कर के, प्रारम्भ कर के (विसे २२८५) ।

आरओ अ [आरतस्] पीछे से (एदि २४६ टी) ।

आरदर वि [दे] १ अनेकान्त । २ संकट, व्याप्त (दे १, ७८) ।

आरभ सक [आ + रभ्] १ शुरू करना । २ हिसा करना । आरंभइ (हे ४, १०५) ।

वक्तु आरभत (गा ४२, से ८, ८१) । सकु आरंभइत्ता, आरंभिअ (नाट) ।

आरभ पु [आरम्भ] १ शुल्भात, प्रारम्भ (हे १, ३०) । २ जीव-हिंसा, वध (आ ७) । ३ जीव, प्राणी (परह १, १) । ४ पाप-कर्म (आचा) । १ य वि [ज] पाप-कार्य से उत्पन्न (आचा) । १ विणय पुं [विनय] आरभ का अभाव । १ विणइ वि [विनयिन्] आरंभ से विरत (आचा) ।

आरभग पु [आरम्भक] १ ऊपर देखो आरभय (सूअ २, ६) । २ वि शुरू करनेवाला (विसे ६२८, उप पृ ३) । ३ हिसक, पाप-कर्म करनेवाला (आचा) ।

आरभि वि [आरम्भिन्] १ शुरू करनेवाला (गड) । २ पाप-कार्य करनेवाला (उप ८६६) ।

आरभिअ पु [दे] मालाकार, माली (दे १, ७१) ।

आरभिअ वि [आरब्ध] आरब्ध, शुरू किया हुआ (भवि) ।

आरभिअ देखो आरभ = आ + रभ् ।

आरभिया स्त्री [आरम्भिकी] १ हिंसा से सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया । २ हिसक क्रिया से होनेवाला कर्म-बन्ध (ठा २, १, नव १७) ।

आरक्ख न [आरक्ष्य] कोतवाल का ओहदा, कोतवाली, आरक्षकता (सुअ ३, १) ।

आरक्ख वि [आरक्ष्] १ रक्षण करनेवाला (दे १, १५) । २ पु कोतवाल, नगर का रक्षक (पअ) ।

आरक्खग वि [आरक्षक] १ रक्षण करनेवाला, चाता (कप्प, सुपा ३५१) । २ पु क्षत्रियों का एक वंश । ३ वि उस वंश में उत्पन्न (ठा ६) ।

आरक्खि वि [आरक्खिन्] रक्षक, चाता (ठा ३, १, अथ २६०) ।

आरक्खिग वि [आरक्षिक] १ रक्षक, आरक्खिय चाता । २ पु कोतवाल (निनु १, १६, सुपा ३३६, महा, स १२७, १५१) ।

आरज्जक सक [आ + राध्] आराधन करना । आरज्जइ (प्राह ६८) ।

आरज्जक वि [आराध्य] पूज्य, माननीय (अच्यु ७१) ।

आरड सक [आ + रट्] १ चिल्लाना, वृष मारना । २ रोना । वक्तु आरडत (उप १२८ टी) । सकु आरडिऊण (महा) ।

आरडिअ न [दे] १ विलाप, क्रन्दन । २ वि चित्र-युक्त (दे १, ७५) ।

आरण पु [आरण] १ देवलोक-विशेष (अनु, सम ३६, उवा) । २ उन देवलोक का निवासी देव (अनु आरण-उप आरणी-एण पासति (सग २२१, निमे ६६६) ।

आरण पुन [आरण] एक देवविमान (देनेद्र १३५) ।

आरण न [द्] १ अवर, होठ । २ फलक (दे १, ७६) ।

आरणाल न [आरनाळ] काजी, सावूदाना (दे १, ६७) ।

आरणाल न [दे] कमल, पद्म (दे १, ६७) ।

आरणण वि [आरण्य] जगली, जगल-निवासी (से ८, ५६) ।

आरणणग वि [आरण्यक] १ जगली, जगल-आरण्यय निवासी, जगल में उत्पन्न (उप २२६, सा) । २ न शास्त्र-विशेष, उपनिषद-विशेष, (पउम ११, १०) ।

आरणणिय वि [आरण्यिक] जगल में बसनेवाला (तापस आदि) (सूअ २, २) ।

आरत वि [आरत] १ थोड़ा रक्त (आचा) । २ अत्यन्त अनुरक्त (परह २, ४) ।

आरत्तिय न [आरात्रिक] आरती (मुर १०, १६, कुमा) ।

आरद्ध वि [आरब्ध] आरब्ध, शुरू किया हुआ (काल) ।

आरद्ध वि [दे] १ बढ़ा हुआ । २ मनुष्य, उत्तुलक । ३ घर में आया हुआ (दे १, ७५) ।

आरनाळ देखो आरणाल = आरनाळ (पाप) ।

आरनाळ न [दे] कमल, पद्म (यद्) ।

आरन्निय देखो आरणणिय (सूअ २, २, २१) ।

आरव देखो आरव । आरवभ नीचे देखो ।

आरभ देखो आरभ = आ + रभ् । आरभइ (हे ४, १५५ उपर १०) । वक्तु आरभंत, आरभमाण (ठा ७) । वक्तु आरभ (विसे ७६५) ।

(जीव ३) । °वरोभासमहावर पु [वराव-
भासमहावर] अजिनवराभास नामक समुद्र
का अविष्ठाता देव (जीव ३) । °वरोभासवर
[°वरावभासवर] देखो अनन्तरोक्त अर्थ
(जीव ३) ।

आईनीइ स्त्री [आदिनीति] सामरूप पहली
राजनीति (सुपा ४६२) ।

आईय देखो आइ = आदि (जी ७, काल) ।

आइय वि [आतीत] १ विशेष-ज्ञात । २
ससार-आप्त, ससार मे घूमनेवाला (आचा) ।

आईल पुन [आचील] पान का थूकना
(पव) ।

आईव अक [आ + दीप्] चमकना । वक
आईवमाग (महानि) ।

आईसर पु [आदीधर] भगवान् ऋषभदेव
(सिदि ५११) ।

आउ स्त्री [दे] १ पानी, जल (दे १, ६१) ।

२ इस नाम का एक नक्षत्र-देव (ठा २, ३) ।
°काय, °काय पु [°काय] जल का जीव
(उप ६८५, परण १) । °काइय, °काइय
पु [°कायिक] जल का जीव (परण १,
भग २४, १३) । °जीव पु [°जीव] जल
का जीव (सूत्र १, ११) । °बहुल वि
[°बहुल] १ जल-प्रचुर । २ रत्नप्रभा पृथिवी
का तृतीय काण्ड (सम ८८) ।

आउ अ [दे] अथवा, या, 'आउ पलोहेइ म
अजउतवेसेण कोइ अमारुसो, आउ सच्चय
चेव अजउतोति' (स ३४६) ।

आउ } न [आयुष्] १ आयु, जीवन-
आउअ } काल (कुमा, रयण १६) । २ उमर,
वय (गा ३२१) । ३ आयु के कारणभूत कर्म-
पुद्गल (ठा ८) । °काल पु [°काल] मरण,
मृत्यु (आचा) । °क्षय पु [°क्षय] मरण,
मौत (विपा १, १०) । °क्लेम न [°क्लेम]
आयु-भालन, जीवन (आचा) । °विज्ञा स्त्री
[°विद्या] वैद्यकशास्त्र, चिकित्साशास्त्र,
(आर) । °वैद्य पु [°वैद्] वैद्यक, चिकि सा-
शास्त्र (विपा १, ७) ।

आउच सब [आ + कुञ्चय्] सकुचित
करना, नमेटना । नक आउचिवि (अप)
(नीन) ।

आउचण न [आकुञ्चन] सकोच, गात्रसंक्षेप
(कस) ।

आउचणा स्त्री [आकुञ्चना] ऊपर देखो
(धर्म ३) ।

अउचिअ वि [आकुञ्चित] १ सकुचित । २
उठा कर धारण किया हुआ (से ६, १७) ।

आउजि वि [आकुञ्चिन] १ सकुचनेवाला ।
२ निश्चल (गडड) ।

आउट देखो आउट्ट = अ-वर्तय् । आउटावेमि
(राया १, ५) ।

आउट अक [आ + कुञ्च्] सकोचना,
प्रयो, सक आउटावित्तु (पव ५) ।

आउटण न [आकुटन] आवर्जन (पचा
१७, १६) ।

आउटण न [आकुञ्चन] सकोच, गात्र-संक्षेप
(हे १, १७७) ।

आउवालिखि वि [दे] आप्लावित, हवाया
हुआ, पानी आदि द्रवपदार्थ से व्याप्त (पात्र) ।

आउक } देखो आउ = आयुष् (सुपा ६५५,
आउग } भग ६, ३) ।

आउच्छ सक [आ + प्रच्छ्] आज्ञा लेना,
अनुज्ञा लेना । वक आउच्छत, आउच्छमाण
(से १२, २१, ४७) । सक आउच्छिऊण,
आउच्छिय (महा, सुपा ६१) ।

आउच्छण न [आप्रच्छन] आज्ञा, अनुज्ञा
(गा ४७, ५००) ।

आउच्छणा स्त्री [आप्रच्छना] प्रश्न (पचा
१२, २६) ।

आउच्छा स्त्री [आपृच्छा] आज्ञा (कुप
१२४) ।

आउच्छिय वि [आपृष्ट] जिसकी आज्ञा ली
गई हो वह (से १२, ६४) ।

आउज्ज देखो आओज्ज = आतोद्य (हे १,
१५६) ।

आउज्ज पु [आवर्ज] १ समुल करना । २
शुभ क्रिया (परण ३६) ।

आउज्ज वि [आवर्ज्य] सम्मुल करने योग्य
(आवम) ।

आउज्ज वि [आयोज्य] जोडने योग्य, सम्बन्ध
करने योग्य (विसे ७४ ३२६६) ।

आउज्जिय वि [आतोद्यिक] वाद्य बजानेवाला
(मुपा १६६) ।

आउज्जिय वि [आयोगिक] उपयोगवाला,
सावधान (भग २, ५) ।

आउज्जिय वि [आवर्जित] समुल किया
हुआ (वरण ३६) ।

आउज्जिया स्त्री [आवर्जिका] क्रिया, व्यापार
(आवम) । °करण न [°करण] शुभ व्यापार-
विशेष (परण ३६) ।

आउज्जीकरण न [आवर्जीकरण] शुभ
व्यापार-विशेष (परण ३६) ।

आउट्ट सक [आ + वृत्] १ करना । २
भूलाना । ३ व्यवस्था करना । ४ अक
समुल होना, तत्पर होना । ५ निवृत्त होना ।

६ घूमना, फिरना । आउट्टइ, आउट्टति (भग
७, १, निचू ३) । वक आउट्टत (सम २२) ।

सक आउट्टिऊण (राज) । हेक आउट्टित्तए
(कप्प) । प्रयो आउट्टवेमि (राया १, ५
टी) ।

आउट्ट सक [आ + कुट्ट्] छेदन करना,
हिंसा करना । आउट्टमो (आचा) ।

आउट्ट वि [आवृत्त] १ निवृत्त, पीछे फिरा
हुआ (उप ६६८), 'दप्पकए वाउट्टे जइ
खिसति तत्थवि तहेव' (वृह ३) । २ भ्रामित,
भुलाया हुआ (उप ६००) । ३ ठीक-ठीक
व्यवस्थित (आचा) । ४ कृत, विहित (राज) ।

आउट्ट पु [आकुट्ट] छेदन, हिंसा (सूत्र १,
१) ।

आउट्ट } वि [आहत] आदर-युक्त (पिंड
आउट्टिअ } ३१९, पव ११२) ।

आउट्टण न [आकुट्टन] हिंसा (सूत्र १, १) ।

आउट्टण न [आवर्त्तन] १ आराधन, सेवा,
भक्ति (वव १, ६) । २ अभिमुख होना, तत्पर
होना (सूत्र १, १०) । ३ अभिलाषा, इच्छा
(आचा) । ४ घूमना, भ्रमण । ५ निवृत्ति
(सूत्र १, १०) । ६ करना, क्रिया, कृति
(राज) ।

आउट्टणया स्त्री [आवर्त्तना] अपायज्ञान
(एदि) ।

आउट्टणा स्त्री [आवर्त्तना] ऊपर देखो (निचू
२) ।

आउट्टावण न [आवर्त्तन] अभिमुख करना,
तत्पर करना (आचा २) ।

आलीढ पुन [आलीढ] मोद्रा का युद्ध समय का आसन-विशेष (वच १) ।

आलीण वि [आलीण] १ लीन, आसक्त, तत्पर (पञ्च ३२, ६) । २ आलिगित, आच्छिद्र (कम्प) ।

आलीयग वि [आदीपक] जलानेवाला, आग सुलगानेवाला (शाया १, २) ।

आलीयमाण देखो आली = आ + ली ।

आलील वि [दे] समीप का भय, पास का उर (दे १, ६५) ।

आलीयग देखो आलीयग (परह १, ३) ।

आलीवण न [आदीपन] आग लगाना (दे १, ७१, शिवा १ ?) ।

आलीविय वि [आदीपिय] आग से जलाया हुआ (पि २४६) ।

आलु पुन [आलु] कन्द-विशेष, आलू (शा १०) ।

आलुई ली [आलुकी] वल्ली-विशेष (पच १०) ।

आलुख सक [वह] जलाना, दाह देना । आलुखइ (हे ४, २०८, पड्) ।

आलुख सक [स्पृश] स्पर्श करना, छूना । आलुखइ (हे ४, १८२) ।

आलुखण न [स्पर्शन] स्पर्श, छूना (गउड) ।

आलुखिअ वि [स्पृष्ट] स्पृष्ट, छुआ हुआ (पि १, २१, पात्र) ।

आलुखिअ वि [दग्ध] जला हुआ (सुर ६ २०३) ।

आलुघ सक [स्पृश] छूना । आलुघइ (प्राकृ ७४) ।

आलुप सक [आ + लुम्प्] हरण करना । आलुपह (आचा) ।

आलुप वि [आलुम्प] अपहारक, हरण करनेवाला, छीन लेनेवाला (आचा) ।

आलुग देखो आलु (परण १) ।

आलुगा ली [दे] घटी, छोटा घडा (उप ६६०) ।

आलुयार वि [दे] निरर्थक, ध्यर्थ, निष्प्रयोजन, 'ता दसिमो समग्ग अन्नह कि आलुयारमणिएहि' (सुपा ३४३) ।

आलेक्ख वि [आलेख्य] चित्रित, 'रत्ति आलेक्खिय' परिवट्टेउ लक्खं आलेक्खदियाय-

राएवि न खम' (अचु २५, से २, ४५, गा ६४१, गउड) ।

आलेट्टु } देखो आसिलिस ।
आलेट्टुअ }

आलेव पु [आलेप] विलेपन, लेप, 'आलेव-निमित्त च देवीयां जलयालकियवाहाओ घसति चरए' (महा) ।

आलेवण न [आलेपन्] १ लेप, विलेपन । २ जिसका लेप किया जाता है वह वस्तु, 'जे मिसू रत्ति आलेवणजाय पडिगाहेत्ता' (निचू १२) ।

आलेसिय वि [आलेपित] आलिगन कराया हुआ (चेइय ३७६) ।

आलेह पु [आलेख] चित्र (आवम) ।

आलेहिअ वि [आलेखित] चित्रित (महा) ।

आलोअ सक [आ + लोक्] देखना, विलोकन करना । वक्क आलोअत, आलो-इत, आलोएमाण (गा ५४६, उप वृ ४३, आचा) । कवक्क आलोअत (से १, २५) । सक आलोएऊण, आलोइत्ता (काल, ठा ६) ।

आलोअ सक [आ + लोच्] १ देखाना । २ गुरु को अपना अपराध कह देना । ३ विचार करना । ४ आलोचना करना । आलोएइ (भग) । वक्क आलोअत (पडि) । सक आलोएत्ता, आलो-इअ (भग, पि ५८२) । हेक्क आलोइत्तए (ठा २, १) । क आलो-एयन्व, आलोएइयन्व (उप ६८२, श्लो ७६६) ।

आलोअ पु [आलोक] १ तेज, प्रकाश (पि २, १२) । २ विलोकन, अच्छी तरह देखना (श्लो ३) । ३ पृथ्वी का समान-भाग, सम भू-भाग (श्लो ५६५) । ४ गवाक्षदि प्रकाश-स्थान (आचा) । ५ जगत्, ससार (आव) । ६ ज्ञान (परह १, ४) ।

आलोअग } वि [आलोचक] आलोचना
आलोअय } करनेवाला (शा ४०, पुष्क ३५५, ३६०) ।

आलोअण न [आलोकन] विलोकन, दर्शन, निरीक्षण (श्लो ५६ मा) ।

'अत्यालोअणतरला, अयरकईए भमति बुद्धोओ । त एव निरारभ, एत्ति हियय कइदाए' (गउड) ।

आलोअग न [आलोचन] नीचे देखो (परह २, १, प्रासू २४) ।

आलोअणा ली [आलोचना] १ देवना, बतलाना । २ प्रायश्चित के लिए अपने दोषों को गुरु को बताना देना । ३ विचार करना (भग १७, २, आ ४२, स ५०६) ।

आलोइअ वि [आलोचित] दृष्ट, निरीक्षित (से ६, ६४) ।

आलोइअ वि [आलोचित] प्रदर्शित, गुरु को बताया हुआ (पडि) ।

आलोइअ देखो आलोअ = आ + लोच् ।

आलोइत्तु वि [आलोकयित्] देखने वाला, द्रष्टा (सम १५) ।

आलोइह वि [आलोकवत्] प्रकार-युक्त (वजा १६०) ।

आलोअत देखो आलोअ = आ + लोक् ।

आलोअ देखो आलोअ = आलोक (श्लो ५६५) । नयरन [नगर] नगर-विशेष (पञ्च ६८, ५७) ।

आलोअ देखो आलोअ = आ + लोच् । वक्क आलोअत (सुपा ३०७) । सक आलो-चिऊण (स ११७) ।

आलोअण देखो आलोअण (उप ३३२) ।

आलोअ सक [आ + लोअय्] हिलोरना, मथन करना । सक आलोअडिअ (अप) (सण) ।

आलोअिय } वि [आलोअित] मथित,
आलोअिय } हिलोरा हुआ, 'आलोअिया य नयरो' (पञ्च ५३, १२६, उप १४२ टी) ।

आलोअण न [आलोकन] गवाक्ष (उत्त १६, ४) ।

आलोअ सक [आ + लोअय्] आच्छादित करना । कवक्क आलोअिऊमाण (स ३८२) ।

आलोअ देखो आलोअ = आलोक, 'भते अत्यालोअे भेसज्जे भोयणे पियागमणे' (रमा) ।

आलोअिय वि [आलोपित] आच्छादित, ढका हुआ (शाया १, १) ।

आव वि [यावन्] जितना । आवत्ति (पि ३६६) ।

आव अ [यावन्] जब तक, जब लग । 'कह वि [कथ] देखो 'कहिय (विसे १२६३, आ १) । 'वह अ [कथम्]

आएस पु [आदेश] १ अपेक्षा । २ प्रकार, रीति (एदि १८४) । ३ वि नीचे देखो (पिंड २३०) ।

आएस देखो आवेस (भग १४, २) ।

आएस पु [आदेश] १ उपदेश, शिक्षा ।
आएसग } २ आज्ञा, हुकुम (महा) । ३ विवक्षा, सम्मति (सम्म ३७) । ४ अतिथि, मेहमान (सूत्र २, १, ५६) । ५ प्रकार, भेद, 'जीवे ए भते । कालाएषेण कि सपदेसे अपदेसे' (भग ६, ४, जीव २, विसे ४०३) । ६ निर्देश (निचु) । ७ प्रमाण, 'जाव न बहुप्पसन्न ता मीस एस इत्य आएसो' (पिंड २१) । ८ इच्छा, अभिलाषा, देखो आपसि । ९ दृष्टान्त, उदाहरण, 'वाषाइयमाएसो अवरद्धो हुज्ज अन्नतरएण' (आचानि २६७) । १० सूत्र, ग्रन्थ, शास्त्र (विसे ४०५) । ११ उपचार, आरोप, 'आएसो उवयारो' (विसे ३४, ८८) । १२ शिष्ट सम्मत, 'बहुसुयमाइएण तु,

न बाहियएणेहि जुगप्पहाणेहि ।

आएसो सो उ भवे,

अहवावि नयतरविगप्पो' (वव २, ८) ।

आएसण न [आदेशन] ऊपर देखो (महा) ।

आएसण न [आदेशन, आवेशन] लोहा वगैरु का कारखाना, शिल्पशाला (आचा २, २, २, १०, औप) ।

आएसि वि [आदेशिन्] १ आदेश करने वाला । २ अभिलाषी, इच्छुक (आचा) ।

आएसिय वि [आदिष्ट] जिसको आज्ञा दी गई हो वह (भवि) ।

आएसिय वि [आदेशिक] १ आदेश सबन्धी । २ विवाह प्रादि के जिनमें बचे हुए वे क्षात्र-पदार्थ जिनको श्रमणों में बाँट देने का सक्त्त किया गया हो (पिंड २२६) ।

आओ अ [दे] अथवा, या, 'हत्त किमेयति, कि ताप सुविण्णो, आओ इदजाल आओ मइविग्गमो, आओ सच्चय चवत्ति' (स ४५४) ।

आओग पु [आयोग] १ लाभ, नफा (औप) ।

२ अर्थविक सुद के लिए करजा देना (भग) ।

३ परिकर सरजाम (औप) ।

आओग पु [आयोग] अर्थोपाय, अर्थोपाजन वा मावन (सूत्र २, ७, २) ।

आओग पु [आयोग्य] परिकर, सरजाम (औप) ।

आओज्ज पुन [आयोग्य] वाद्य, बाजा (महा, षड्) ।

आओज्ज वि [आयोज्य] सबन्ध-योग्य, जोडने योग्य (विसे २३) ।

आओड सक [आ + खोटय्] प्रवेश कराना, घुसेडना । आओडावेंति (विपा १, ६) ।

आओडण न [आओलन] मजबूत करना (से ६, ६) ।

आओडिअ वि [दे] ताडित, मारा हुआ (से ६, ६) ।

आओध अक [आ + युध्] लडना । आओधेहि (वेरि १११) ।

आओस सक [आ + क्रुश्, क्रोशय्] आक्रोश करना, शाप देना । आओसइ (निर १, १) आओसेज्जसि, आओसेमि (उवा) । कवकू. आओसेज्जमाग (अत २२) ।

आओस पु [दे] प्रदोष-समय, सन्ध्या-काल (ओघ ६१ भा) ।

आओसणा छी [आओशाना] निर्भर्त्सना, तिरस्कार (निर १, १) ।

आओहण न [आयोधन] युद्ध, लडाईं (उप ६४८ टी, सुर ६, २२०) ।

आत वि [अन्त्य] अन्त का (पचा १८, ३६) ।

आकख सक [आ + काड्, ख्] चाहना, इच्छना । आकखिहि (भवि) ।

आकंखा छी [आकाङ्क्षा] चाह, इच्छा, अभिलाषा (विसे ८५६) ।

आकखि वि [आकाङ्क्षिन्] अभिलाषी, इच्छुक (आचा) ।

आकद् अक [आ + कन्द्] रोना, चिल्लाना । आकदामि (पि ८८) ।

आकदिय न [आकन्दित] १ आक्रन्दन, रोदन । २ वि जिसने आक्रन्दन किया हो वह (दे ७, २७) ।

आकप अक [आ + कम्प्] १ थोडा कांपना । २ तत्पर होना । ३ आराधन करना । संकू आकपइत्ता, आकपइत्तु (राज) ।

आकप पु [आकम्प] १ थोडा कांपना । २ आराधन (वव) । ३ तत्परता, आवर्जन (राज) ।

आकपण न [आकम्पन] ऊपर देखो (वव; धर्म) ।

आकपिय वि [आकम्पित] ईपत् चलित, कम्पित (उप ७२८ टी) ।

आकपिय वि [आकम्पित] आवर्जित, किया हुआ (पिंड ४३६) ।

आकद्ध पु [आकर्ष] खींचाव । वि'ट्टि' खी [वि'कृष्टि] खींच-तान (भग १५) ।

आकद्धण न [आकर्षण] खींचाव (निचु) ।

आकड्ढिय वि [दे] बाहर निकाला हुआ, 'पुव्व व वच्छ तीए निब्भच्छिया

ता धरित्तु गलयम्मि ।

पच्छिमअसोगवणियादारेणकड्ढिया

भक्ति ॥' (धर्मवि १३३) ।

आकण्णण न [आकर्णन] श्रवण (न्) ।

आकण्णिय वि [आकर्णित] श्रुत सुना हुआ (आचा) ।

आकदि देखो आकिदि (सक्ति ६) ।

आकम्हिय वि [आकस्मिक] अकस्मात् होने-वाला, बिना ही कारण होनेवाला, 'वज्जकनि मित्ताभावा ज भयमाकम्हिय तति' (विमे ३४५१) ।

आकर पु [आकर] १ खान । २ समूह (कुमा) ।

आकस देखो आगस । आकसिस्सामो (आचा २, ३, १, १५) हेक्क आकसिस्सए (आचा २, ३, १, १५) ।

आकार देखो आगार (कुमा, द १३) ।

आकास देखो आगास (भग) ।

आकासिय वि [दे] पर्याप्त, काफी (पड्) ।

आकिइ छी [आकृति] स्वल्प, आकार (हे १, २०६) ।

आकिंचण न [आकिञ्चन्य] निस्पृहता निष्परिग्रहता, 'आकिंचण च बभ च्च, जइ धम्मो' (नव २३) ।

आकिंचणया छी [आकिञ्चनता] ऊपर देखो (सम १२०) ।

आकिंचणिय } देखो आकिंचण (आचु, सुपा
आकिंचन्न } ६०८) ।

आकिट्टि छी [आकृष्टि] आकर्षण (धर्म वि १५) ।

आवादि स्त्री [आवृत्ति] आवरण (सक्ति ६)।
आवन्न देखो आवण (पउम ३५, ३०, एया
१, २, स २५६, उवर १६०)।

आवय पु [आवर्त्त] देखो आवत्त, 'किति-
कम्म बारसावय' (सम २१)।

आवय देखो आवड। वक्क, आवयत आवय-
माण (पउम ३३, १३, एया १, १, न)।
आवया स्त्री [आपगा] नदी (पात्र, स
६१२)।

आवया स्त्री [आपद] आपदा, विपद, दु ख
(पात्र, घण ४२),

'न गणति पुञ्जनेह, न य
नीह नेय लोय-अववाय।

नय भाविआवयाओ, पुरिसा
महिलाए अयत्ता' (सुर २, १६६)।

आवर सक [आ + वृ] आच्छादन करना,
ढाँकना। कर्म आवरिज्जाइ (भग ६, ३३)।
कवक आवरिज्जामाण (भग १५)। सक
आवरित्ता (ठ)।

आवरण न [आवरण] १ आच्छादन करने-
वाला, ढकनेवाला, तिरोहित करनेवाला (सम
७१, एया १, न)। २ वास्तु-विद्या (ठा
६)।

आवरणिज्ज वि आवरणीय] १ आच्छा-
दनीय। २ ढकनेवाला, आच्छादन करनेवाला
(औप)।

आवरिय वि [आवृत्त] आच्छादित, तिरो-
हित, 'आवरियो कम्मोहि' (निच्च १)।

आवरिसण न [आवर्षण] छिडकना, सिंचन
(वृह १)।

आवरिसण न [आवर्षण] सुगंध जल की वृष्टि
(अणु २५)।

आवरेइया स्त्री [दे] करिका, मय परोसने
का पात्र-विशेष (दे १, ७१)।

आवलण न [आवलन] मोडना (परह १,
१)।

आवलि स्त्री [आवलि] १ पत्निक, श्रेणी
(महा)। २ पु एक विद्यार्थी का नाम (पउम
५, ६५)।

आवलिआ स्त्री [आवलिका] १ पत्निक, श्रेणी
(राय)। २ क्रम, परिपाटी (सुज १०)। ३
समय-विशेष, एक सूक्ष्म काल-परिमाण (भग

६, ७)। १ पविट्ट वि [प्रविष्ट] श्रेणी से
व्यवस्थित (भग)। २ 'वाहिर वि [बाह्य]
विप्रकीर्ण, श्रेणि-बद्ध नहीं रहा हुआ (भग)।
आवलिय वि [आवलि] वेष्टित (सुग्रनि
२००)।

आवली स्त्री [आवली] १ पत्निक, श्रेणी
(पात्र)। २ रावण की एक कन्या का नाम
(पउम ६, ११)।

आवस सक [आ + वस्] रहना, वास
करना। आवसेजा (सुम १, १२)। वक्क
'आगरं आवसंता वि' (सुम १, ६)।

आवसह पु [आवसय] १ घर, आश्रय,
स्थान (सुम १, ५)। २ मठ, संन्यासियो
का स्थान (परह, हे २, १६०)।

आवसहिय पु [आवसयिक] १ गृहस्थ, गृही
(सुम २, २)। २ सन्यासी (सुम २, ७)।

आवसिय, वि [आवसयिक] १ अवश्य-कर्तव्य,
आवसग, जरूरी। २ न सामयिकादि धर्मा-
आवससय, अनुष्ठान, नित्य-कर्म (उव, दस १०,
एवि)। ३ जैन ग्रन्थ-विशेष, आवश्यक सूत्र
(आवम)। १ गुणयोग पु [ानुयोग] आव-
श्यक सूत्र की व्याख्या (चित्ते १)।

आवससय पुन [आपाश्रय] १—३ ऊपर
देखो। ४ आचार, आश्रय (वित्ते ८७५)।

आवसिसया स्त्री [आवसयिकी] सामाचारो-
विशेष, जैन साधु का अनुष्ठान-विशेष (उत
२६)।

आवह सक [आ + वह] धारण करना,
बहन करना, 'धेवीवि निहिपसगो जइणो
सुद्धस्स पकमावहइ' (उव), 'एणो पूमण
तवसा आवहेज्जा' (सू १, ७)।

आवह वि [आवह] धारण करनेवाला
(आचा)।

आवा सक [आ + पा] १ पीना। २ भोग
में जाना, उपभोग करना। हेहू 'वत इच्छसि
आवेउ, सेय ते मरण भवे' (दस २, ७)।

आवाइया स्त्री [आवापिका] प्रधान होम,
'पल्लुपाए पक्खावाइयाए' (स ७५७)।

आवाग पु [आपाक] आवा, मिट्टी के पात्र
पकाने का स्थान (उप ६४८, वित्ते २४६
टी)।

आवाड पु [आपात] भोलो की एक जाति, तेष

कालेण तेष समएण उत्तरइडभरहे वासे वहेवे
आवाडा एणम चित्ताया परिवसति' (ज १)।
आवाणय न [आपाणक] दूकान, 'नित्राइ
श्रवाणयाइ' (स ५३०)।

आवाय पुन [आपात] श्रम्यागम, श्रम्यमन
(पव ६१, ६१ टी)।
आवाय देखो आवाग (आ २३)।

आवाय पु [आपात] १ प्रारम्भ, शुरुआत
(पात्र, से ११, ७५)। २ प्रथम मेलन (ठा
५, १)। ३ तत्काल, तुरत (आ २३)। ४
पतन, गिरना (आ २३)। ५ सम्बन्ध, सयोग
(उव, कस)।

आवाय पु [आवाप] १ आवा, मिट्टी के पात्र
पकाने का स्थान। २ आलवाल। ३ प्रवेश,
फँकना। ४ शत्रु की चिन्ता। ५ वीना, वपन
(आ २३)।

आवायण न [आपादन] सम्पादन, (धमस
१०६८)।

आवाल देखो आलवाल (धर्मवि १६, ११२)।
आवाल } न [दे] जल के निकट का प्रदेश
आवालय } (दे २, ७०)।

आवाव देखो आवाय = आवाप। 'कहा स्त्री
[कथा] रसोई सम्बन्धी कथा, वि कथा विशेष
(ठा ४, २)।

आवास पु [आवास] १ वास-स्थान (ठा ६,
पात्र)। २ निवास, अवस्थान, रहना (परह
१, ४, औप)। ३ पक्षि-गृह, नोड (वव १
१)। ४ पडाव, डेरा (सुपा २५६, उप पृ
१३०)। १ पव्वय पु [पव्वत] रहने का
पर्वत (इक)।

आवास } देखो आवससय = आवश्यक (पि
आवासग } ३४८, शोध ६३८, वित्ते ८५०)।
आवासणिगया स्त्री [आवासनिका] आवाप-
स्थान (स १२२)।

आवासय न [आवासक] १ आवश्यक,
जरूरी। २ नित्य-कर्तव्य वर्मानुष्ठान (हे १,
५३, वित्ते ८५८)। ३ पु पक्षि-गृह, नोड
(वव १, १)। ४ वि सस्कारावायक, वासक।
५ आच्छादक (वित्ते ८७५)।

आवासि वि [आवासिन्] रहनेवाला,
'एगत्तनियावासी' (उव)।

आवासिय वि [आवासित] सन्निवेशित,
पडाव डाला हुआ (सुपा ४५६, सुर ३, १)।

आगाढ वि [आगाढ] १ प्रबल, दु साध्य, 'कडुगोसहव आगाढरोगिणो रोगसमदच्छ' (उप ७२८ टी), 'नो कप्पइ निग्गधारण वा निग्ग-धीण वा अन्नमन्नस मोए आइइत्तए, नसत्थ आगढिहि रोगाधकेहि' (कस) । २ अपवाद, वास कारण (पचभा) । ३ अत्यन्त गाढ (निचू) ।
 °जोग पु [°जोग] योग-विशेष, गखि-योग (धोष ५४८) । °पण न [°प्रज्ञ] शास्त्र, आगम, 'आगाढपएणसु य भावियप्पा' (वव) । °सुय न [°श्रुत] आगम-विशेष (निचू) ।
 आगामि वि [आगामिन्] आनेवाला (सुपा ९) ।
 आगार सक [आ + कराय्] बुलाना, आह्वान करना । सक आगारेउण (आव) ।
 आगार न [आगार] १ घर, गृह (गाया १, १, महा) । २ वि गृहस्थ, गृही (ठा) । °स्थ वि [°स्थ] गृही (पि ३०६) ।
 आगार पु [आकार] १ अपवाद (उप ७२८ टी, पडि) । २ इणित, चेष्टा-विशेष (सुर ११, १६२) । ३ आकृति, रूप (सुपा ११५) ।
 आगारिय वि [आगारिक] गृहस्थ-सक्की (विसे) ।
 आगारिय वि [आकारित] १ आहूत । २ उत्सारित, परित्यक्त (आव) ।
 आगाल पु [आगाल] १ समान प्रदेश मे रहना । २ सम भाव से रहना (आचा) । ३ ज्वीरणा-विशेष (राज) ।
 आगास पुन [आकाश] आकाश, अन्तराल (उवा) । °गमा ली [°गमा] विद्या-विशेष, जिमके बल से आकाश मे गमन कर सकता है (पउम ७, १४४) । °गामि वि [°गामिन्] आकाश मे गमन करने वाला, पक्षि-प्रभृति (आचा) । °जोइणी ली [°गोगिनी] पक्षि-विशेष, 'आगासजोइणीए निसुओ सद्दोवि वाम-पान्निम' (सुपा १८५) । °त्थिकाय पु [°त्थिकाय] आकाश-प्रदेशो का समूह, अवरुड आकाश-द्रव्य (पएण १) । °थिग्गालन [°दे] मघरहित आकाश का भाग (आवम) । °फल्लिह, °फालिय पु [°रफट्टिक] निर्मल अन्तराल (राय, औप) । °फालिया ली [°फालिअ] एक मीठा द्रव्य (पएण १७) ।

°इवाइ वि [°तिपातिन्] विद्या आदि के बल से आकाश मे गमन करनेवाला (औप) ।
 आगासिय वि [आकाशित] आकाश को प्राप्त (औप) ।
 आगासिय वि [आकर्षित] खींचा हुआ (औप) ।
 आगासिया ली [आकाशिकी] आकाश मे गमन करने की लब्धि-शक्ति (सूअनि १६३) ।
 आगाह सक [अव + गाह्] अवगाहन करना, स्नान करना । आगाहइत्ता (दस ५, १, ३१) ।
 आगिइ ली [आकृति] आकार, रूप, मूर्ति (सुर २, २२, विपा १, १) ।
 आगिट्टि ली [आकृष्टि] आकर्षण (सुपा २३२) ।
 आगी देखो आगिइ, 'खिएणावल्लियगागी-दिसासु सामाइय न ज तासु' (विसे २७०७) ।
 आगु पु [आकु] अमिलाष, इच्छा (आक) ।
 आघ देखो आघव । 'सूत्रकृताय' सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का दसवाँ अध्यायन (सूअ १, १०) ।
 आघस सक [आ + घृष्] घर्षण करना (निचू) ।
 आघस सक [आ + घृष्] घिसना, थोडा घिसना । आघसिज्ज (आचा २, २, १, ४) ।
 आघस वि [आघर्ष] जल के साथ घिसकर जो पिया जा सके वह (पिंड ५०२) ।
 आघसण न [आघर्षण] एक बार का घर्षण (निचू) ।
 आघयण न [दे] वव-स्थान (गाया १, ६—पत्र १६७) ।
 आघव सक [आ + ख्या] १ कहना, उपदेश देना । २ ग्रहण करना । आघवेइ (ठा) । कवक आघविज्जए (भग) । भूका आघ (सूअ, पि ८८) । वक आघवेमाण (पि ४४) । हेक आघवित्तए (पि ८८) ।
 आघवणा ली [आख्यान] कथन, उक्ति (गाया १, ६) ।
 आघवइत्तु वि [आख्यायक] कथक, वक्ता, उपदेशक (ठा ४, ४) ।
 आघविय वि [आख्यात] उक्त, कहा हुआ (पि ४४) ।

आघविय वि [दे] गृहीत, स्वीकृत (अणु २०) ।
 आघवेत्तग वि [आख्यापयित्ठक] उपदेश, वक्ता (आचा) ।
 आघस सक [आ + घस्] थोडा घिसना । आघसावेज्ज (निचू) ।
 आघा सक [आ + ख्या] कहना । (आचा) ।
 आघा सक [आ + घ्रा] सूँघना । वक आघा-यत (उप ३५७ टी) ।
 आघाय वि [आख्यात] कथित, उक्त (आचा) ।
 आघाय वि [आख्यात] १ उक्त, कथित (सूअ १, १३, २) । २ न उक्ति, कथन (सूअ १, १, २, १) ।
 आघाय पुं [आघात] १ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । २ विनाश (उक्त ५, ३२, सुख ५, ३२) ।
 आघाय पुं [आघात] १ वष । २ चोट, प्रहार (कुमा, गाया १, ६) ।
 आघायत देखो आघा = आ + घ्रा ।
 आघाव देखो आघव । आघावेइ (पि ८८, २०२) ।
 आघुट्ट वि [आघुष्ट] घोषित, जाहिर किया हुआ (भवि) ।
 आघुम्म अक [आ + घूर्ण] डोलना, हिलना, काँपना, चलना ।
 आघुम्मिय वि [आघूर्णित] डोला हुआ, कम्पित, चलित, 'आघुम्मिययणजुओ' (पउम १०, ३२, ८७, ५६) ।
 आघोस सक [आ + घोपय्] घोषणा करना, ढिंढोरा पिटवाना । आघोसेह (स ६०) ।
 आघोसण न [आघोपग] ढिंढोरा, घोषणा (महा) ।
 आचक्ख सक [आ + चक्ष्] कहना । वक आचक्खत (पि २५, ८८, नाट) ।
 आचक्खिद (शौ) वि [आख्यात] उक्त, कथित (अभि २००) ।
 आचरिय वि [आचरित] १ अनुष्ठित, विहित । २ न आचरण (प्रासू १११) ।
 आचाम सक [आ + चामय्] चाटना, खाना, पीना । वक आचामत (कुप्र ३६) ।
 आचार देखो आचार = आचार (कुमा) ।
 आचारिअ देखो आचारिय = आचार्य (प्राप) ।

°आण देखो जाण = यान (चार ८) ।

आणछ देखो आअछ । आणछइ (षड्) ।

आणत देखो आणी ।

आणतरिय न [आनन्तर्य] १ अविच्छेद, व्यवधान का अभाव (ठा ४, ३) । २ अनुक्रम, परिपाटि, 'आणतरियति वा अणुपरिवाडिति वा अणुकमेति वा एण्टा' (आह्व) ।

आणद अक [आ + नन्द] आनन्द पाना, खुश होना ।

आणद सक [आ + नन्द्य] खुश करना । आणदेदि (शौ) (नाट) । कृ आणदिअन्व (रयण १०) ।

आणद पु [आनन्द] १ अहोरात्र का सोल-हवां मुहूर्त (सुज १०, १३) । २ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१) ।

आणद पु [आनन्द] १ हर्ष, खुशी (कुमा) । २ भगवान् शीतलनाथ के मुख्य-शिष्य (सम १५२) । ३ पोटनपुर नगर का एक राजा, जो भगवान् अजितनाथ का मातामह था

(पउम ५, ५२) । ४ भावी छठवां बलदेव (सम १५४) । ५ नागकुमार-जातीय देवों के स्वामी धरणेन्द्र के एक रथ-सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १) । ६ मुहूर्त-विशेष (सम ५१) ।

७ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र (राज) । ८ भगवान् महावीर के एक साधु शिष्य का नाम (कण्) । ९ भगवान् महावीर के दस मुख्य उपासकों (श्रावक-शिष्य) में पहला (उवा) । १० देव-विशेष (ज, दीव) । ११

राजा श्रेणिक के एक पौत्र का नाम (निर २, १) । १२ 'उपासगदसा' सूत्र का एक अध्ययन (उवा) । १३ 'अणुत्तरोपपातिक दसा' सूत्र का सातवां अध्ययन (भग) ।

१४ 'निरयावली' सूत्र का एक अध्ययन (निर २, १) । १५ व. देश विशेष (पउम ६८, ६६) । °पुर न [°पुर] नगर विशेष (उह) । °रकिरय पु [°रक्षित] स्वनामख्यात एक जैन साधु (भग) ।

आणदण न [आनन्दन] १ खुशी, हर्ष (सुपा ४४०) । २ वि खुश करनेवाला, आनन्द-दायक (म ३१३, रयण ३, सण) ।

आणदण्ड } पु [दे] पहली बार को रज-
आणदण्ड } स्वला का रक्त वस्त्र (गा ४५७,
दे १, ७२ पड्) ।

आणदा स्त्री [आनन्दा] १ देवी-विशेष, मेरु की पश्चिम दिशा में स्थित रुचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी (ठा ८) ।

२ इस नाम की एक पुष्करिणी (राज) । आणदिय वि [आनन्दित] १ हर्षपाप्त (श्रौप) । २ रामचन्द्र के भाई परम क साय

दोक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ३) । आणदिर वि [आनन्दिन्] आनन्दी, खुश रहनेवाला (भवि) ।

आणकख सक [परि + ईक्ष्] परीक्षा करना । हेक आणकखेडं (श्रौष ३६) । आणन्छ देखो आअछ । आणन्छइ (षड्) ।

आणट्ट वि [आनष्ट] सर्वथा नष्ट (उत्त १८, ५०, सुख १८, ५०) । आणण न [आनण] मुख, घुँह (कुमा) ।

आणण न [आनयन] लाना (महा) ।

आणत्त वि [आज्ञप्त] आदिष्ट, जिसको हुकुम दिया गया हो वह (याया १, ८, सुर ४, १००) । आणत्ति स्त्री [आज्ञप्ति] आज्ञा, हुकुम (अभि ८१) । °अर वि [°कर] आज्ञाकारक, नौकर (से ११, ६५) । °किकर वि [°किङ्कर] नौकर (पपह) । °हर वि [°हर] आज्ञा-वाहक, सदेश-वाहक (अभि ८१) ।

आणत्तिया स्त्री [आज्ञप्तिका] ऊपर देखो (उवा, पि ८८) । आणत्थ न [आनर्थ्य] अनर्थता (समु १५०) । आणप (अशो) देखो आणव = आ + जपय् । आणपयति (पि ४) ।

आणपाण देखो आणापाण (नव ६) । आणप्प वि [आज्ञाप्य] आज्ञा करने योग्य (सूत्र १, ४, २, १५) ।

आणम अक [आ + अन्] श्वास लेना । आणमति (भग) ।

आणमणी देखो आणवणी (भास १८, पि ८८, २४८) ।

आणय पुन [आनत] १ देवलोक-विशेष (सम ३५) । २ पु उस देवलोक-वासी देव (उत्त) ।

आणय पुंन [आनत] एक देवविमान (देवेन्द्र ३२५) ।

आणयण न [आनयन] लाना, आनना (आ १४, स ३७६) ।

आणव सक [आ + जपय्] आज्ञा देना, फरमाना । आणवइ, आणवेसि (पउम ३३, १००, ६८) । वक आणवेमाण (पि १५१) । कृ आणवेयव्व (महा) ।

आणव देखो आणाव = आ + नायय् ।

आणवण न [आणवण] आदेश, फर-माइरा (उवा, प्रामा) ।

आणवण न [आनायन] मँगवाना (महा ५७८) ।

आणवणिय वि [आज्ञापनिक] आज्ञा करनेवाला (राय २५) ।

आणवणिया स्त्री [आज्ञापनिका, आनाय-निका] देखो दोनो आणवणी (ठा २, १) ।

आणवणी स्त्री [आज्ञापनी] १ क्रिया-विशेष, हुकुम करना । २ हुकुम करने से होनेवाला कर्मबन्ध (नव १६) ।

आणवणी स्त्री [आनायनी] १ क्रिया-विशेष, मँगवाना । २ मँगवाने से होनेवाला कर्म-बन्ध (नव १९) ।

आणा स्त्री [आज्ञा] आदेश, हुकुम (श्रौष ६०) । २ उपदेश, 'एसा आणा निग्गथिया' (आचा) । ३ निर्देश, 'उववाओ रिह्वेसो आणा विणओ य होति एण्टा' (वव) । ४ आगम, सिद्धान्त (विसे ८६४, एदि) । ५ सूत्र की व्याख्या (श्रौप) । °ईसर पु [°ईडवर] आज्ञा फरमानेवाला मालिक (विपा १, १) । °जोग पु [°योग] १ आज्ञा का सम्बन्ध (पंचा) ।

२ शास्त्र के अनुसार कृति, 'पाव विसाइतुल्लं आणाजोगो अ मतसमो' (पंचव) । °रुइ स्त्री [°रुचि] सम्यक्त्व-विशेष (उत्त) । २ वि. आगमो पर अद्धा रखनेवाला (पंच) । °व वि [°वन्] आज्ञा माननेवाला (पंच) । °वत्त न [°पत्र] आज्ञापत्र, हुकुमनामा (से १, १८) । °ववहार पु [°व्यवहार] व्यवहार-विशेष (पंचा) । °विजय न [°विचय, °विजय] धर्मध्यान-विशेष, जिसमें आज्ञा—आगम के गुणों का चिन्तन किया जाता है (श्रौप) ।

आणाइ पु [दे] शकुनि, पक्षी (दे १, ६४) ।

आसायण न [आस्वादन] स्वाद लेना, चखना (पद्य २२, २७, श्याया १, ६, सुपा १०७)।
 आसायण न [आशातन] १ नीचे देखो (विश्वे ६६)। २ अनन्तानुबन्धि कषाय का वेदन (विश्वे)।
 आसायणा स्त्री [आशातना] विपरीत वर्तन, अपमान, तिरस्कार (पंडि)।
 आसार सक [आ + सारय्] तदुरस्त करना, चीणा को ठीक करना। सक आसारैऊण (सिदि ७६४)।
 आसार पु [आसार] समीकरण, चीणा को ठीक करना (कुप्र १३६)।
 आसार पु [आसार] वेग से पानी का बरसना, (से १, २०, सुपा ६०६)।
 आसारिय वि [आसारित] ठीक किया हुआ, 'आसारिया कुमारेण वीणा' (कुप्र १३६)।
 आसारिय पुत्री [आशालिक] १ सर्प की एक जाति (पद् १, १)। २ स्त्री विद्या-विशेष (पद्य १२, ६४, ५२, ६)।
 आसावह्नी स्त्री [आशापह्नी] एक नगरी (ती १५)।
 आसावि वि [आसाविन्] भरनेवाला, सच्छिद्र (सुप्र, १, ११)।
 आसास सक [आ + सास्] आशा करना, उम्मीद रखना। आसासदि (वेगी ३०)।
 आसास अक [आ + आसास्य] आरवासन वेना, सान्त्वना करना। आसासइ (बजा १६)।
 वक्र आसासत, आसासित (से ११, ८७, आ १२)।
 आसास पु [आशास] १ आरवासन, सान्त्वना (शोध ७३, सुपा ८३, उप ६६२)। २ विश्राम (ठा ४, ३)। ३ द्वीप-विशेष (आचा)।
 आसासअ पुं [आशासक] विश्राम-स्थान, ग्रन्थ का अर्थ, सर्ग, परिच्छेद, अन्वय (से २, ४६)। २ वि. आशासन देनेवाला, 'नाए आसासय सुमित्तुअ' (पुष्प ३८)।
 आसासग पु [आशासरु] बीजक-नामक वृक्ष (श्रीप)।
 आसासण न [आशासन] १ सान्त्वना, दिलासा, (सुर ६, ११०, १२, १५, उप ५ ५७)। २ गहो के देव-विशेष (ठा २, ३)।

आसासण पुं [आशासन] १ एक महाग्रह (सुज २०)। २ वि. आशासन-दाता (कुप्र ११०)।
 आसासिअ वि [आशासित] जिसको आशासन दिया गया हो वह (से ११, १३६, सुर ४, २८)।
 आसि सक [आ + श्रि] आश्रय करना। संक आसिज्ज (आरा ६६)।
 आसि देखो अस = अस्।
 आसि वि [आशिन] खानेवाला, भोजक (सट्टि १३)।
 आसिअ वि [आशिक] घर का शिक्षक, 'दुठ्ठे वि य जो आसे दमेइ त आसिय विवि' (वव ४)।
 आसिअ वि [आशित] खिलाया हुआ, भोजित (से ८, ६३)।
 आसिअ वि [आशित] आश्रय-प्राप्त (कम्प, सुर ३, १७, से ६, ६५, विश्वे ७५६)।
 आसिअ वि [आसित] १ उपविष्ट, बैठा हुआ (से ८, ६३)। २ रहा हुआ, स्थित (पद्य ३२, ६६)।
 आसिअ देखो आसित्त (श्याया १, १, कम्प, श्रीप)।
 आसिअअ वि [दे] लोहे का, लोह-निर्मित (दे १, ६७, सूत्र कं चूर्णो सुं गा २८५)।
 आसिआ स्त्री [आसिका] वैठना, उपवेशन (से ८, ६३)।
 आसिआ देखो आसी = आशिप् (पद्)।
 आसिच सक [आ + सिच्] सीचना। कर्म आसिचत (वेइय १५१)।
 आसिण वि [आशिच्] खानेवाला, भोजक, 'मसासियस्स' (पद्य २६, ३७)।
 आसिण पु [आशिन] आश्रित-मास (पाय)।
 आसित्त वि [आसित्त] १ थोड़ा सिक (अग ६, ३३)। २ सिक, सोचा हुआ (आवम)। ३ पु. नपुंसक का एक भेद (पुष्प १२८)।
 आसित्तिआ स्त्री [दे] श्रावण-विशेष, 'विसाहाहि आसित्तिआओ भोआ कज सावैति' (सुज १०, १७)।
 आसियावाय देखो आसीवाय (सुप्र १, १५, १६)।

आसिल पु [आसिल] एक महर्षि (सुप्र ३, ४, ३)।
 आसिलिट्टि वि [आशिल्ल] आश्रित (नाट)।
 आसिल्लिस सक [आ + शिल्ल] आश्रित करना। हेइ आलेट्टुअ, आलेट्टु (हे २, १६४)।
 आसिसा देखो आसी = आशिप् (महा, श्री १३३)।
 आसी देखो अस् = अस्।
 आसी स्त्री [आशी] दाढ़ा (विश्वे)। 'विस पु [विप] १ जहरिला सर्प, 'आसी दाढा लणगविसासीविसा मुणोयन्वा' (जीव १ टी, प्रासू १२०)। २ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा २, ३)। ३ निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ, सत्त्व विशेष को प्राप्त (भग ८, १)।
 आसी स्त्री [आशिप्] आशीर्वाद (सुर १, १३८)। 'वयण न [वचन] आशीर्वाद (सुपा ४६०)। 'वाय पु [वाद] आशीर्वाद (सुर १२, ४३, सुपा १७४)।
 आसीण वि [आसीन] बैठा हुआ, 'नमिऊण आसीणा तसो' (वसु)।
 आसीवअ पु [दे] दरजी, कपडा सीनेवाला (दे १, ६६)।
 आसीसा देखो आसी = आशिप् (पद्)।
 आसु पुन [अश्रु] आंसू (सिदि १७)।
 आसु अ [आसु] शीघ्र, तुरत, जल्दी (सांभ आसु) १८, महा, कज)। 'कार पु [कार] १ हिसा, मारना। २ मरने का कारण, विद्व-चिन्ता वगैरह (आव)। ३ शीघ्र उपस्थित, 'आसुकारे मरणे, अच्छिन्नाए य जीवियामाए' (आज ६)। 'पण्य वि [प्रह] १ शीघ्र-बुद्धि। २ दिव्य-ज्ञानी, केवल-ज्ञानी (सुप्र १, ६, १४)।
 आसुर वि [आसुर] मयुर-सकन्वी (ठा ४, ४, आज ३६)।
 आसुरत्त न [आसुरत्त] क्रोधित, गुस्सा (दम ८, २५)।
 आसुरिय पु [आसुरिक] १ मयुर, मयुर रूप से उषण (राज)। २ वि. मयुर-सकन्वी (सुप्र ३, २, २७)।
 आसुरीय वि [असुरीय] मयुर-सकन्वी,

(धर्मवि न) । सक्र आहविउण, आहविऊण (धर्मवि ६८, सम्मत २१७) ।
 आहव पुं [आहव] युद्ध, लडाई (पाम्म, सुपा २८८, आरा ४१) ।
 आहवण } न [आहवान] १ बुलाना ।
 आहवण } २ ललकारना (आ १२, सुपा ६०, पञ्च ६१, ३०, स ६४) ।
 आहविअ देखो आहूअ = आहूत (ती ४) ।
 आहव्व वि [आभाव्य] शास्त्रोक्त क्षेत्रादि (पञ्च ११, ३०, पव १०५) ।
 आहव्वणी की [आह्वानी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २) ।
 आहा सक [आ + ख्या] कहना । कर्म आहिज्ज (पि ५४५), आहिज्जति (कम्प) ।
 आहा सक [आ + धा] स्थापन करना । कर्म आहिज्ज (सूत्र २, २) । हेऊ आहैउ (सूत्र १, ६) । सक्र आहाय (उत्त ५) ।
 आहा की [आभा] कान्ति, तेज (कम्प) ।
 आहा की [आधा] १ आश्रय, आघार (पिड) । २ साधु के निमित्त आहार के लिए मन-प्रणिधान (पिड) । ३ कड वि [कृत] आघा-न-दोष से युक्त (स १८८) । ४ कम्म न कर्मन् १ साधु के लिए आहार पकाना । २ साधु के निमित्त पकाया हुआ भोजन, जो जैन साधुओं के लिए निषिद्ध है (परह २, ३, ठा ३, ४) । ५ कम्मिय वि [कर्मिक] देखो पूर्वोक्त अर्थ (अनु) ।
 आहाण न [आधान] १ स्थापन । २ स्थान, आश्रय, 'सव्वणुणहाण' (आव ४, उवर २६) ।
 आहाण } न [आख्यान, क] १ उक्ति, आहाणय } वचन । २ किंवदन्ती, कहावत, लोकोक्ति (सुर २, ६६, उप ७२८ टी) ।
 आहातहिय वि [याथातथ्य] सत्य, वास्तविक (सूत्र २, १, २७) । देखो आहत्तहीय ।
 आहार सक [आ + हारय] खाना, भोजन करना, भक्षण करना । आहारद, आहारैति (भग) । वक्क आहारेमाण (कम्प) । सक्र आहारिज्जसमाण (भग) । हेऊ आहारिन्त्तए, आहारेत्तए (कम्प) । क्र आहारे-यव्व (ठा ३) ।
 आहार पु [आहार] १ छुराक, भोजन (स्वप्न ६०, प्राप् १०४) । २ खाना, भक्षण (पव) । ३ न देखो आहारग (पञ्च १०२, ६८) ।

पञ्जत्ति की [पर्याप्ति] युक्त आहार को खल और रस के रूप में बदलने की शक्ति (भग ६, ४) । २ पोसह पु [पोषध] व्रत विशेष, जिसमें आहार का सर्वथा या आंशिक त्याग किया जाता है (आव ६) । ३ सण्णा की [सन्ना] आहार करने की इच्छा (ठा ४) ।
 आहार पु [आधार] १ आश्रय, अधिकरण (सुपा १२८, संघा १०३) । २ आकाश (भग २०, २) । ३ अवधारण, याद रखना (पुष्प ३५६) ।
 आहारग न [आहारक] १ शरीर विशेष, जिसको चौदह-पूर्वी, केवलज्ञानी के पास जाने के लिए बनाता है (ठा २, २) । २ वि भोजन करनेवाला (ठा २, २) । ३ आहारक शरीर-वाला (विसे ३७५) । ४ आहारक शरीर उत्पन्न करने का जिसे सामर्थ्य हो वह (कम्प) ।
 जुगल न [युगल] आहारक शरीर और उसके अगोपाङ्ग (कम्म २, १७, २४) । ५ गाम न [नामन्] आहारक शरीर का हेतु-भूत कर्म (कम्म १, ३३) । ६ दुग न [द्विक] देखो जुगल (कम्म २, ३, ८, १७) ।
 आहारण वि [आधारण] १ धारण करने-वाला । २ आघार-भूत (से ६, ५०) ।
 आहारण वि [आहारण] आकर्षक (से ६, ५०) ।
 आहारय देखो आहारग (ठा ६, भग, परए २८, ठा ५, १, कर्म १, ३७) ।
 आहाराइणिया की [याथारात्तिकता] यथा-ज्येष्ठ, ज्येष्ठानुक्रम (कस) ।
 आहारि वि [आहारिन्] आहार-कर्ता (अज्ज १११) ।
 आहारिम वि [आहार्य] १ खाने योग्य । २ जल के माथ खाया जा सके ऐसा योग्य चूर्ण-विशेष (पिड ५०२) ।
 आहारिम वि [आहार्य] आहार के योग्य, खाने लायक (निच्च ११) ।
 आहारिय वि [आहारित] १ जिसने आहार किया हो वह, 'तत्स कडरोय्मस एरणो त परीय पाएभोयए आहारियस्स समाएस्स' (एयाया १, १६) । २ भक्ति, युक्त (भग) ।
 आहावणा की [आभावना] अपरिगणना, गणना का अभाव (राज) ।

आहावणा की [आभावना] उद्देश्य (पिड ३६१) ।
 आहाविअ वि [आधावित] दौड़ा हुआ (सिरी ७५२) ।
 आहाचिर वि [आधाचिर] दोड़नेवाला (सण) ।
 आहास देखो आभास = आ + भाप् । सक्र आहासिवि (अप) भवि ।
 आहाह म [आहाह] आश्चर्य-प्रोत्क अन्वय (हे २, २१७) ।
 आहि पुत्री [आधि] मन की पीड़ा (धम्म १२ टी) ।
 आहिआइ की [आभिजाति] कुलीनता, खानदानी (से १, ११) ।
 आहिआई की [आभिजाती] कुलीनता (गा २८५) ।
 आहिड सक [आ + हिण्ड] १ गमन करना, जाना । २ परिश्रम करना । ३ घूमना, परिभ्रमण करना । वक्क आहिडत, आहि-डेमाण (उप २६४ टी, एयाया १, १) । सक्र आहिडिय (महा, स १६३) ।
 आहिडग वि [आहिण्डक] चलनेवाला, आहिडय परिभ्रमण करनेवाला (शोध ११५, ११८, औप) ।
 आहिक न [आधिक्य] अधिकता (विसे २०८७) ।
 आहिजाइ देखो आहिआइ (महा) ।
 आहिजाई देखो आहिआई (गा २४) ।
 आहितुडिअ पु [आहितुण्डिक] गार्हिक, सपरिहिया, मपेरा (मुद्रा ११६) ।
 आहित्य वि [हे] १ चलित, गत । २ कुपित, क्रुद्ध (दे १, ७६, जीव ३ टी) । ३ आकुल, घबड़ाया हुआ (दे १, ७६, से १३, ८३, पाम्म), 'आहित्य उप्पिन्द च आउल रोय-भरिय च' (जीव ३ टी) ।
 आहिद्ध वि [दे] १ रट, रका हुआ । २ गलित, गला हुआ (पड) ।
 आहिपत्त न [आधिपत्य] मुनियान, नैतृत्त (उप १०३ टी) ।
 आहिय वि [आहित] १ स्थापित, निवेशित (ठा ४) । २ सम्पूर्ण हितकर (सूत्र) । ३ निर्दिष्ट,

आमुट्ट वि [आमृष्ट] १ स्पृष्ट । २ जलटा किया हुआ (शोध) ।

आमुय सक [आ + मुच्] छोडना, त्यागना ।
आमुयइ (गडड) ।

आमुस सक [आ + मृश] थोडा या एक बार स्पर्श करना । वक्क आमुसत, आमुस-माण (ठा १, आचा, भग न, ३) ।

आमेडणा छी [आमेडना] विपर्यस्त करना, उलटा करना (परह १, ३) ।

आमेल पु (दे) लट, जटा (दे १, ६२) ।

आमेल { पु [आपीड] फूलो की माला, जो आमेलग { मुकुट पर धारण की जाती है, आमेलग } शिरोभूषण (हे १, १०५, पि १२२, भग ६, ३३) ।

आमेल देखो आमेल = आपीड (उवा २०६) ।
आमेडिअ वि [आपीडित] अवतसित, शिरो-भूषण से विभूषित (से ६, २१) ।

आमोअ अक [आ + मुद] खुश होना । सक आमोएवि (अप) (भवि) ।

आमोअ पु [दे आमोद] हर्ष, खुशी (दे १, ६४) ।

आमोअ पु [आमोद] सुगन्ध, अच्छी गन्ध (से १, २३) ।

आमोअ पु [आमोद] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

आमोअअ वि [आमोदक] १ सुगन्ध उत्पन्न करनेवाला । २ आनन्द-जनक (से ६, ४०) ।

आमोअअ वि [आमोदद] सुगन्ध देनेवाला (मे ६, ४०) ।

आमोइअ वि [आमोदित] हृष्ट, हर्षित (भवि) ।

आमोक्ख पु [आमोक्ष] मोक्ष, मुक्ति, पूर्ण छुटकारा (सूत्र १, १, ४, १३) ।

आमोक्खा छी [आमोच्] १ छुटकारा । २ परिव्याण (सूत्र १, ३, पि ४६०) ।

आमोड पु [दे] छूट, लट, समूह (दे १, ६२) ।

आमोडग न [आमोटक] १ वाद्य-विशेष (आच) । २ फूलो से बालो का एक प्रकार का बन्धन (उत्तनि ३) ।

आमोडण न [आमोटन] थोडा मोडना (परह १, १) ।

सामोडिअ वि [आमोटित] मन्दि (माल ६०) ।

आमोद { देखो आमोअ (स्वप्न ५२, सुर ३, आमोय } ४१, काल) ।

आमोय पुं [आमोक] कतवार-पुञ्ज, कतवार का ढेर, कूडे का पुञ्ज (आचा २, ७, ३) ।

आमोरअ वि [दे] विशेषज्ञ, अच्छा जानकार (दे १, ६६) ।

आमोस पुं [आमर्श, ०र्ष] स्पर्श, छूना, 'सफ-रिसणमामोसो' (परह २, १ टी, विसे ७८१) ।

आमोस पु [आमोष] चोर (उत्त ६, २८) ।

आमोसग वि [आमोषक] १ चोर, चोरी करनेवाला (ठा ५, २) । २ चोरो की एक जाति (सर २, ६) ।

आमोसहि पु [आमशौषधि] लम्बि-विशेष, जिसके प्रभाव से स्पर्श मात्र से ही सब रोग नष्ट होते हैं (परह २, १, औप) ।

आय पु [आय] १ लाभ, प्राप्ति, फायदा (अणु) । २ वनस्पति-विशेष (परह १) । ३ कारण, हेतु (विसे १२२६, २६७६) । ४ अध्ययन, पठन (विसे ६५८) । ५ गमन (विसे २७६२) ।

आय पु [आय] अध्ययन, शास्त्र-विशेष (अणु २५०) ।

आय वि [आज] १ अज-सम्बन्धी । २ बकरे के बाल से उत्पन्न (बन्नादि) (आचा) ।

आय वि [आगत] आया हुआ (काल) ।

आय वि [आत्त] गृहीत, 'आयचरित्तो करेइ सामरण, (सथा ३६) ।

आय पु [आगस्] १ पाप । २ अपराध, गुनाह (आ २३) ।

आय पु छी [आत्मन्] १ आत्मा, जीव (सम १) । २ निज, स्वयं, 'अहालहुस्सगाईं रयणाइ गहाय आयाए एगतमत अक्कामत्ति' (भग ३, २) । ३ शरीर, देह (आया १, न) । ४ ज्ञान आदि आत्मा के गुण (आचा) । 'गुत्त वि

[गुत्त] सयत, जितेन्द्रिय, 'आययुत्ता जिह-दिया' (सूत्र) । 'जोगि वि [योगिन्] मुमुक्षु, ध्यानी (सूत्र) । 'ट्ठि वि [र्थिन्] मुमुक्षु, 'एव से भिक्खु आयट्ठी' (सूत्र) । 'तत्त वि [तन्त्र] स्वाधीन, स्वतन्त्र (राज) । 'तत्त न [तत्त्व] परम पदार्थ, ज्ञानादि रत्न-त्रय (आचा) । 'प्पमाण वि [प्रमाण] साढे तीन हाथ का परिमाण वाला (पव) । 'प्पवाय न

[प्रवाद] बारहवें जैन अङ्ग ग्रन्थ का एक भाग, सातवां पूर्व (सम २६) । 'भाव पुं [भाव] १ आत्म-स्वरूप । २ निज अभिप्राय (भग) । ३ विषयासक्ति 'विणइज्जयो सव्वह आयाभाव' (सूत्र) । 'य पु [ज] पुत्र, लडका (भवि) । 'रक्ख वि [रक्ष] अङ्गरक्षक (आया १, न) । 'व वि [वत्] ज्ञानादि आत्मगुणो से सपन्न (आचा) । 'हम्म वि [घ्न] आत्मा को अधोगति मे ले जानेवाला । २ देखो आहाकम्म (पिड) ।

आयं देखो आवइ, 'किचायरक्खिओ जो पुरिसो सो होइ वरिससययाऊ' (सुपा ४५३) ।

आयड छी [आर्यति] भविष्य काल (सुर ४, १३१) ।

आयइजणग न [आयतिजनक] तपश्चर्या-विशेष (पव २७१) ।

आयइत्ता देखो आइ = आ + दा ।

आयंक पु [आतङ्क] १ दुःख । २ पीडा (आचा) । ३ दुःसाध्य रोग, आशु-जाती रोग (औप) ।

आयकि वि [आतङ्किन्] रोगी, रोग दुक्त (ठा ५, ३, टी—पत्र ३४२) ।

आयगुल न [आत्माङ्गुल] परिमाण का एक भेद,

'जेण जया मग्गसा, तेसिं जं होइ माएण्व तु ।
त भणियमिहायगुलमणिययमाण पुण इम तु ।'
(विसे ३४० टी) ।

आयच सक [आ + तच्च] सीचना, छिडकना । आयचइ, आयंचामि (उवा) ।

आयचणिया छी [आतञ्चनिञ्ज] कुम्भकार का पात्र-विशेष, जिसमे वह पात्र बनाने के समय मिट्टीवाला पानी रखता है (भग १५) ।

आयचणी छी [आतञ्चनी] ऊपर देखो (भग १५) ।

आयत वि [आचान्त] जिसने आचमन किया हो वह (आया १, १, स १८९) ।

आयत देखो आया = आ + या ।

आयतम वि [आत्मतम] आत्मा को खिन्न करनेवाला (ठा ४, २) ।

आयतम वि [आत्मतमस्] १ अज्ञानी, अज्ञान । २ क्रोधी (ठा ४, २) ।

आयदम वि [आत्मदम] १ आत्मा को शान्त

इओ अ [इतस्] १ इयसे, इस कारण (पि १७४) । २ इस तरफ (सुपा ३६४) । ३ इस (लोक) मे (विसे २६८२) ।

इओअ अ [इतश्च] प्रसगन्तर-सूचक अव्यय (आ २८) ।

इखिणिया ली [दे. इङ्खिनिका] निन्दा, गद्दी (सूत्र १, २) ।

इखिणी ली [दे. इङ्खिनी] ऊपर देखो (सूत्र १, २) ।

इगार } देखो अगार (पि १०२, जी ६,
इंगाल } प्राप्) । °कम्म न [°कम्मन्] कोयला आदि उत्पन्न करने का और वेचने का व्यापार (पडि) । °सगळिया ली [°शकटिका] अगोठी, आग रखने का बर्तन (भग) ।

इंगारडाह पुन [अङ्गारदाह] आवा, मिट्टी के पात्र पकाने का स्थान (आचा २, १०, २) ।

इंगाल वि [आङ्गार] अङ्गार-सम्बन्धी (दस ५) ।

इंगालग देखो अगारग (ठा २, ३) ।

इंगाल्य देखो इंगालग (सुज्ज २०) ।

इंगाली ली [दे] ईख का टुकड़ा, गढेरी (दे १, ७६, पात्र) ।

इंगाली ली [आङ्गारी] देखो इंगाल-कम्म (आ २२) ।

इगिअ न [इङ्खित] इशारा, संकेत, अभिप्राय के अनुष्प चोष्टा (पात्र) । °जा, °ण, °णु वि [°ङ्ख] इशारे से समझनेवाला (प्राप्, हे २, ८३, पि २७६) । °मरण न [°मरण] मरण-विशेष (पचा) ।

इगिअजाणुअ देखो इगिअज्ज (प्राक् १८) ।

इगिणी ली [इङ्खिनी] मरण-विशेष, अनशन-क्रिया-विशेष (सम ३३) ।

इगुअ न [इङ्खुद्] उगुदी वृक्ष का फल (कुमा, पउम ४१, ६) ।

इगुई } ली [इङ्खुदी] वृक्ष-विशेष, इसके
इगुदी } फल तैलमय होते हैं, इसका दूसरा नाम मण-विरोपण भी है, क्योंकि इसके तेल से मण बहुत शीघ्र अच्छे होते हैं (आचा, अभि ७३) ।

इधिअ पि [दे] प्रात, सूँघा हुआ (दे १, ८०) ।

°इणर देखो किण्णर (से ८, ६१) ।

इत्त देखो ए=आ+इ ।

इंद पु [इन्द्र] १ देवताओं का राजा, देवराज (ठा २) । २ श्रेष्ठ, प्रधान, नायक, 'एरिंद' (गडड), 'देविंद' (कप्प) । ३ परमेश्वर, ईश्वर (ठा ४) । ४ जीव, आत्मा, 'इदी जीवो सव्णो-वलद्धिभोगपरमेसरत्तण्णो' (विसे २६६३) ।

५ ऐश्वर्य-शाली (आवम) । ६ विद्याधरो का प्रसिद्ध राजा (पउम ६, २, ७, ८) । ७ षड्बी-काय का एक अघिष्ठायक देव (ठा ५, १) ।

८ ज्येष्ठा नक्षत्र का अघिष्ठायक देव (ठा २, ३) । ९ ज्ञोसर्वे तीर्थंकर के एक स्वनाम-ख्यात गणेश्वर (सम १५२) । १० सप्तमी तिथि (कप्प) । ११ मेघ, वर्षा, 'किं जयह सव्वत्था दुन्निमस अह भवे इदो' (दसनि १०५) । १२ न देवविमान-विशेष (सम ३७) ।

इ पु [°जित्] १ इस नाम का राक्षस वंश का एक राजा, एक लकेश (पउम ५, २६२) । २ रावण के एक पुत्र का नाम (से १२, ९८) । °ओय देखो °गोव (पि १६८) । °काइय पु [°कायिक] त्रीन्द्रिय जीव-विशेष (परण १) । °कील पु [°कील] दरवाजा का एक अवयव (श्रीप) । °कुम्भ पु [°कुम्भ] १ बड़ा कलश (राय) । २ उद्यान-विशेष (णामा १, ६) । °केउ पु [°केतु] इन्द्र-व्वज, इन्द्र यष्टि (परह १, ४, २, ४) । °लील देखो °कील (श्रीप, पि २०६) । °गाइय देखो °काइय (उत्त २६) । °गाह पु [°ग्रह] इन्द्रावेश, किसी के शरीर में इन्द्र का अघिष्ठान, जो पागलपन का कारण होता है, 'इदगाहा इवा खदगाहा इवा' (भग ३, ७) । °गोव, °गोवग, °गोवय पु [°गोप] वर्षा ऋतु से होनेवाला रक्त वर्ण का शुद्ध जन्तु-विशेष, जिसको पुजराती में 'गोकुल गाम' कहते हैं (उत्त ३२, सुत्त २, ८७, जी १७, पि १६८) । °गाह पु [°ग्रह] ग्रह-विशेष (जीव ३) । °गिग पु [°गिन्] १ विशाखा नक्षत्र का अघिष्ठायक देव (अणु) । २ महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) । °गाव पु [°ग्रीव] ग्रहाघिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) । °जसा ली [°यशस्] कामिन्वय नगर के ब्रह्मराज की एक पत्नी (उत्त १३) । °जाल न [°जाल] माया-कर्म, छद्म, कपट (स ४५४) । °जालि, °जालिअ वि [°जालिन्, °क] मायावी, वाजीगर (ठा ४, सुपा २०३) ।

°जुइण पु [°जुतिङ्ग] स्वनाम-ख्यात इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । °ज्मय पु [°ध्वज] बड़ी ध्वजा (पि २६६) । °ज्मया ली [°ध्वजा] इन्द्र द्वारा भरतराज को दिखाई हुई अपनी दिव्य अञ्जलि के उपलक्ष्य में राजा भरत से उस अञ्जलि के समान आकृति की की हुई स्थापना और उसके उपलक्ष्य में किया गया उत्सव (आचू २०) । °णोल पुन [°नील] नीलम, नीलमणि, रत्न-विशेष (गडड, पि १६०) । °तरु पु [°तरु] वृक्ष-विशेष, जिसके नीचे भगवान् सभनथाथ को केवल-ज्ञान हुआ था (पउम २०, २८) । °त्त न [°त्त्व] १ स्वर्ग का आधिपत्य, इन्द्र का असाधारण धर्म । २ राजत्व । ३ प्राधान्य (सुपा २५३) । °दत्त पु [°दत्त] इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा (उप ६३६) । २ एक जैन मुनि (विपा २, ७) । °दिण्ण पु [°दिण्ण] स्वनाम-ख्यात एक जैन आचार्य (वण) । °घणु न [°घणुप्] १ शक्र-वधु, सूर्य की किरण मेघों पर पड़ने से आकाश में जो घणु का आकार दोष पड़ता है वह । २ विद्याधर वंश के एक राजा का नाम (पउम ८, १८६) । °नील देखो °णील (पउम ३, १३०) । °पाडिबया ली [°प्रतिपत्] कार्तिक (पुजराती आदिन) मास के कृष्णपक्ष की पहली तिथि (ठा ४) । °पुर न [°पुर] १ इन्द्र का नगर, अमरावती (उप ५ १२६) । २ नगर-विशेष, राजा इन्द्रवत् की राजधानी (उप ६३६) । °पुरग न [°पुरक] जैनीय वेश्यावृत्तिक गण के चौथे कुन का नाम (कप्प) । °पुम पु [°प्रभ] राक्षस वंश के एक राजा का नाम, जो लङ्का का राजा था (पउम ५, २६१) । °भूइ पु [°भूति] भगवान् महावीर का प्रथम-मुद्य गिप्य, गौतमन्यायी (नम १६, १५२) । °मह पु [°मह] १ इन्द्र की आराधना के लिए किया जाता एक उद्य । २ आश्विन पूर्णिमा (ठा ८, २) । °माली ली [°माली] राजा आदिप्य की पत्नी (पउम ६, १) । °सुद्धाभिन्त्त पु [°सुद्धाभिन्त्त] पन की मातृवी तिथि, ममयी (उत्त १०) । °मह पु [°मेघ] राजम वंश में उत्पन्न एक राजा (पउम ५, २६१) । °य पु [°य] १ देवी इन्द्र (ठा ६) । २ नरत्त गिनेर । ३

आयव वि [आतप] १ उजोत, प्रकाश (गा ४६) । २ ताप, घाम (उत्त) । ३ न मुहूर्त-विशेष (सम ५१) । ०णाम, ०नाम न [०नामन्] नामकर्म का एक भेद (सम ६७) ।
 आयवत्त न [आतपत्र] छत्र, छाता (शाया १, १) ।
 आयवत्त पु [आर्यावर्त्त] भारत, हिंदुस्तान (इक) ।
 आयाव छी [आतपा] १ सूर्य की एक अग्र-महिषी—पटरानी । २ इस नाम का 'ज्ञाता-धर्मकथा' सूत्र का एक अन्वयन (शाया २, १) ।
 आयस वि [आयस] लोहे का, लोह-निर्मित (गड्ड, निचू १) ।
 आयसी छी [आयसी] लोहे का कोश (पएह १, १) ।
 आया देखो आय = आत्मन् ।
 आया सक [आ + या] आना, आगमन करना । आयति (सुपा ५७) । आयाइति, आयाइसु (कम्प) । वक्र आयत ।
 आया सक [आ + दा] ग्रहण करना, स्वीकार करना । आयइज्ज (उत्त ६) । कृ आया-गिज्ज (ठा ६) । सक्र आयाए, आदाय, आयाय (कस, कम्प, महा) ।
 आयाइ छी [आजाति] १ उत्पत्ति, जन्म (ठा १०) । २ जाति, प्रकार । ३ आचार, आचरण (आचा) । ०ट्टाण न [०स्थान] १ ससार, जगत् । २ 'आचाराङ्ग' सूत्र के एक अन्वयन का नाम (ठा १०) ।
 आयाइ छी [आयाति] १ आगमन । २ उत्पत्ति, गर्भ से बाहर निकलना (ठा २, ३) । ३ आयति, भविष्य काल (दसा) ।
 आयाए देखो आया = आ + दा ।
 आयाण पुंन [आदान] १ ग्रहण, स्वीकार (आचा) । २ इन्द्रिय (भग ५, ४) । ३ जिसका ग्रहण किया जाय वह, ग्रहण वस्तु (ठा ४, सूत्र २, ७) । ४ कारण, हेतु, 'सति मे तज आयाणा जेहि कोरइ पावग' (सूत्र १, १), 'किंवा दुम्पायाए अट्टञ्जाए समाह्वसि' (पउम ६५, ४८) । ५ आदि, प्रथम (अणु) ।
 आयाण न [आदान] १ समय, चरित्र (सूत्र १, १२, २२) । २ वि आदेय, उपादेय (सूत्र

१, १४, १७, तदु २०) । ०पय न [०पद] ग्रन्थ का प्रथम शब्द (अणु १४०) ।
 आयाण न [आयान] १ आगमन । २ अश्व का एक आभरण-विशेष (गड्ड) ।
 आयाम सक [आ + यमय्] लम्बा करना । कवक आआमिज्जत (से १-१) । सक्र आयामेत्ता, आयामेत्ताण (भग, पि ५८३) ।
 आयाम सक [आ + यम्] शौच करना, शुद्धि करना । आयामइ (पव १०६ टी) ।
 आयाम सक [दा] देना दान करना । आया-मेइ (भग १५) । संक्र आयामेत्ता (भग १५) ।
 आयाम पु [आयाम] लम्बाई, दैर्घ्य (सम २, गड्ड) ।
 आयाम पु [दे] बल, जोर (दे १, ६५) ।
 आयाम न [आचाम्ल] तपो-विशेष, आयविल, 'नाइविगिट्ठो उ तवो छम्मासे परिमिय तु आयाम' (आचानि २७२, २७३) ।
 आयाम } न [आचाम] अन्नलावण, चावल
 आयामग } आदि का पानी (ओष ३५६, उत्त १५) ।
 आयामणया छी [आयामनता] लम्बाई (भग) ।
 आयामि वि [आयामिन्] लम्बा (गड्ड) ।
 आयामुही छी [आयामुखा] इस नाम की एक नगरी (स ४३१) ।
 आयाय देखो आया = आ + दा ।
 आयाय वि [आयात] आया हुआ (पउम १४, १३०, दे १, ६६, कुम्मा १६) ।
 आयार सक [आ + कारय्] बुलाना, आह्वान करना । आआरेदि (शौ) (नाट) । सक्र आआ-रिअ, आयारेऊण (नाट, स ५७८) ।
 आयार पु [आकार] १ आकृति, रूप (शाया १, १) । २ इङ्गित, इशारा (पात्र) ।
 आयार पु [आकार] 'अ' अक्षर (कुप्र ३२) ।
 आयार पु [आचार] १ आचरण, अनुष्ठान (ठा २, ३, आचा) । २ चाल-चलन, रीत-भात (पउम ६३, ८) । ३ बारह जैन अङ्गग्रन्थो मे पहला ग्रन्थ, 'आयारपदमसुत्ते' (उप ६८०) । ४ निपुण शिष्य (भग १, १) । ०कखेवणी छी [०जेपणी] कथा का एक भेद (ठा ४) । ०भडग, ०भडय न [०गण्डक] ज्ञानादि का उपकरण—सावण (शाया १, १, १६) ।

आयारिमय न [आचारिमक] विवाह के समय दिया जाता एक प्रकार का दान (स ७७) ।

आयारिय वि [आकारित] १ आहूत, बुलाया हुआ (पउम ६१, २५) । २ न आह्वान-वचन, आक्षेप-वचन (से १३, ८०, अग्नि २०५) ।

आयाव सक [आ + तापय्] सूर्य के ताप मे शरीर को थोडा तपाना । २ शीत, आतप आदि को सहन करना । वक्र आयावत पउम ६, ६१), आयावित (काल), आयावेत (पउम २६ २१), आयावेमाण (महा, भग) । हेक आयावेत्तए (कस) । सक्र आयाविय (आचा) ।

आयाव पु [आताप] असुरकुमार-जातीय देव-विशेष (भग १३, ६) ।

आयाव पु [आनाप] आतप-नामकर्म (पच ५, १३७) ।

आयावग वि [आतापक] शीत आदि को सहन करनेवाला (सूत्र २, २) ।

आयावण न [आतापन] एक बार या थोडा आतप आदि को सहन करना (शाया १, १६) । ०भूमि छी [०भूमि] शीतादि सहन करने का स्थान (भग ६, ३३) ।

आयावणया } छी [आतापना] ऊपर देखो
 आयावणा } (ठा ३, ५) ।

आयावय वि [आतापक] शीत आदि को सहन करनेवाला (पएह २, १) ।

आयावल } पु [दे] सबेर का तडका,
 आयावलय } बालातप (दे १, ७०, पात्र) ।

आयावि वि [आतापिन्] देखो आयावय (ठा ४) ।

आयास सक [आ + यासय्] तकलीफ देना, खिन्न करना । आआसति (पि ४६०) । सक्र. आआसिअ (मा ४५) ।

आयास पु [आयास] १ तकलीफ, परिश्रम, खेद (गड्ड) । २ परिग्रह, असन्तोष (पएह १, ५) । ०लिवि छी [०लिपि] लिपि-विशेष (पएह १) ।

आयास देखो आयस (पह) ।

आयास देखो आगास (पउम ६६, ४०, हे १, ८४) । ०तिलय न [०तिलक] नगर-विशेष (भवि) ।

इकार देखो एकारह (कम्म ६, ६६) ।
 इक्किक वि [एकैक] प्रत्येक (जी ३३, प्राप् ११८, सुर ८, ४२) ।
 इक्किल्ली लीन [एकचत्वारिंशत्] एकचालीस, ४१ (कम्म ६, ५६) ।
 इक्कुस न [दे] नीलोत्पल, कमल (दे १, ७६) ।
 इक्ख सक [ईख्] देखना । इक्खइ (उज) ।
 इक्ख (सूत्र १, २, १, २१) ।
 इक्खअ वि [ईक्ख] देखनेवाला (गा ५५७) ।
 इक्खण न [ईक्खण] अवलोकन, प्रेक्षण (पउम १०१, ७) ।
 इक्खाउ देखो इक्खागु (विक्र ६४) ।
 इक्खाग वि [इक्खाक] इक्खाकु नामक प्रसिद्ध क्षत्रियवश मे उत्पन्न (तित्थ) ।
 इक्खाग } पुं [इक्खाकु] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय
 इक्खागु } राजवश, भगवान् ऋषभदेव का वश । २ उस वश मे उत्पन्न (भग ९, ३३, कप्प, श्रौप, अजि १३) । ३ कोशल देश (एया १, ८) । ४ भूमि ली [भूमि] अयोध्या नगरी (भाव २) ।
 इक्खु पु [इक्खु] १ ईल, ऊल (हे २, १७, पि ११७) । २ भ्रात्य-विशेष, 'वरट्टिका' नाम का भ्रात्य (आ १८) । ३ गडिया ली [गण्डिका] गडि, ईल का टुकड़ा (आचा) । ४ घर न [गृह] उद्यान-विशेष (विसे) । ५ चोयग न [दे] ईल का कुचा (आना) । ६ डालग न [दे] १ ईल की शाखा का एक भाग (आचा) । २ ईल का छेद (निचू १) । ३ पेशिया ली [पेशिका] गरदरी (निचू १६) । ४ भित्ति ली [दे] ईल का टुकड़ा (निचू १६) । ५ मेरग न [मेरक] गरदरी, कटे हुए ऊल के तुल्ले (आचा) । ६ लाट्टि स्त्री [यष्टि] ईल की लाठी, रुदण्ड (आचू) । ७ वाड पु [वाट] ईल का खेत, 'सुचिरं पि अच्यमारो नलयमो इच्छुवाडमज्जम्मि' (भाव ३) । ८ सालग न [दे] १ ईल की लम्बी शाखा (आचा) । २ ईल की बाहर की छाल (निचू १६) । देखो उच्छु ।
 इका देखो एक (कम्म १, ८, ३३, सुपा ४०६, आ १४, नव ८, पि ४४५, आ ४४, सम ७५) ।

इग्याल लीन [एकचत्वारिंशत्] एकचालीस, ४१ (कम्म ६, ५६) ।
 इगवीसइम वि [एकविंश] एकवीसवां (पव ४६) ।
 इगुचाल वि [एकचत्वारिंशत्] सख्या-विशेष, ४१—चालीस और एक (भग, पि ४४५) ।
 इगुणवीस वि [एकोनविंश] उनीसवां (पव ४६) ।
 इगुणीस } ली [एकोनविंशति] उनीस (पव
 इगुवीस } १८, कम्म ६, ५६) ।
 इगुसट्टि ली [एकोनपष्टि] उनसठ (कम्म ६, ६१) ।
 इग वि [दे] भीत, डरा हुआ (दे १, ७६) ।
 इग देखो एक (नाट) ।
 इग्घअ वि [दे] भरिसत, तिरस्कृत (दे १, ८०) ।
 इच्चा देखो इ सक ।
 इच्चाइ पुन [इत्यादि] वगैरह, प्रयुति (जी ३) ।
 इच्चेव अ [इत्येवम्] इस प्रकार, इस भाषिक (सूत्र १, ३) ।
 इच्छ सक [इप्] इच्छा करना, चाहना ।
 इच्छइ (उज, महा) । वक्क इच्छन, इच्छ-माण (उत्त १, पचा ५) ।
 इच्छ सक [आप् + सू = ईप्स्] प्राप्त करने को चाहना । क इच्छियव्व (वव १) ।
 इच्छकार देखो इच्छा-कार (पडि) ।
 इच्छकार पु [इच्छाकार] 'इच्छा' शब्द (पचा १२, ४) ।
 इच्छा स्त्री [इच्छा] पल की ग्यारहवी रात्रि, 'जयति-अपराजिया य ग(१ इ)च्छा य' (सुज १०, १४) ।
 इच्छा स्त्री [इच्छा] अभिलाषा, चाह, वाञ्छा (उवा, प्राप् ४८) । २ कार पु [कार] स्वकीय-इच्छा, अभिलाष (पडि) । ३ इच्छ वि [इच्छ] इच्छा के अनुकूल (भाव ३) । ४ गुलोम वि [गुलोम] इच्छा के अनुकूल (परण ११) । ५ गुलोमिय वि [गुलोमिक] इच्छा के अनुकूल (आचा) । ६ पणिय वि [पणीत] इच्छानुसार किया हुआ (आचा) । ७ परिमाण न [परिमाण] परिश्राव वस्तुओं के विषय की इच्छा का परिमाण करना, थावक का पाचवां व्रत (ठा ५) । ८ मुच्छा स्त्री [मुच्छा]

अत्यासक्ति, प्रबल इच्छा (परह १, ३) । ९ लोभ पु [लोभ] प्रबल लोभ (ठा ६) । १० लोभिय वि [लोभिक] महालोभी (ठा ६) । ११ लोल पु [लोल] १ महान् लोभ । २ वि महा-लोभी (वृह ६) ।
 १२ इच्छा स्त्री [दित्सा] देने की इच्छा (भाव) ।
 इच्छिय [इष्ट] इष्ट, अभिलषित, वाञ्छित (सुर ४, १५३) ।
 इच्छिय वि [ईप्सित] प्राप्त करने को चाह हुआ, अभिलषित (भग, सुपा ६२५) ।
 इच्छिय वि [इच्छित] जिसकी इच्छा की गई हो वह (भग) ।
 इच्छिर वि [एपित्] इच्छा करनेवाला (कुमा) ।
 इच्छु देखो इक्खु (कुमा, प्राप् ३३) ।
 इच्छु वि [इच्छु] अभिलाषी (गा ७४०) ।
 इज्जा सक [आ + इ] आना, आगमन करना । वक्क इज्जत,
 'विणयम्मि जो उवाएण, चोइओ कुप्पई नरो । दिव्व सो सिरिमिज्जति, दहेए पडिसेहए ।' (दस ६, २, ४) ।
 इज्जा पुन [इज्जा] यत्न, याग, 'भिसवद्धा वष इज्जि' (उत्त १२, ३) ।
 इज्जा स्त्री [इज्जा] १ याग, पूजा । २ ब्राह्मण का सन्ध्याचर्चन (अणु ठा १०) ।
 इज्जा स्त्री [दे] माता, जननी (अणु) ।
 इज्जिसिय वि [इज्जैपिक] पूजा का अभिलाषी (भग ९ ३३) ।
 इज्जमा अक [इज्ज] चमकना (हे २, २८) । वक्क इज्जमाण (राय) ।
 इट्टा पु [दे] नेवई, गु० नेव (पिडनि = गा० ४६१, ४६८) ।
 इट्टा स्त्री [इष्टका] नीचे देखो (परह २, २, पिड) ।
 इट्टा स्त्री [दे] नाथ विशेष, सेव (पिड ४६१, ४६६, ८७२) ।
 इट्टवाय देखो इट्टा-याय (सम्मत्त १३७) ।
 इट्टा स्त्री [इष्टका] इंट (गवड, ह २, ३४) ।
 ३ पाय, वाय पु [पाक] इंटो का पचना । ४ जहाँ पर इंट पतई जाती हैं वह म्यान (ठा ८) ।

आरभड न [आरभट] १ नृत्य का एक भेद (ग ४, ४) । २ इस नाम का एक मुहूर्त, 'छन्नेव य आरभडो सोमित्तो पचमगुलो होइ' (गरिण) ।

आरभड न [आरभट] एक तरह की नाट्य विधि (राय ५४) । °भसोल न [°भसोल] नाट्यविधि-विशेष (राय ५४) ।

आरभडा स्त्री [आरभटा] प्रतिलेखना-विशेष (श्रेष्ठ १६२ भा) ।

आरभिय न [आरभित] नाट्यविधि-विशेष (राय) ।

आरय वि [आरत] १ उपरत । २ अग्रगत (सूत्र १, १५) ।

आरय वि [आरत] उपरत, सर्वथा निवृत्त (सूत्र १, ४, १, १, १, १०, १३) ।

आरव पु [आरव] शब्द, आवाज, ध्वनि (सण) ।

आरव पु [आरव] इस नाम का एक प्रसिद्ध म्लेच्छ देश (पण्ड १, १) ।

आरव } वि [आरव] अरव देश मे उत्पन्न, आरवग } अरव देश का निवासी । स्त्री °वी (णाम १, १) ।

आरविद वि [आरविन्द] कमल सम्बन्धी (गड) ।

आरम सक [आ + रस्] चिल्लाना, बूम मारना । वक्र आरसत (उत्त १६) । हेक आरसिड (काल) ।

आरसिय न [आरसित] १ चिल्लाहट, बूम । २ चिल्लाया हुआ (विपा १, २) ।

आरसिय पु [आदर्श] दर्पण (कहावली) ।

आरह देखो आरभ । आरहइ (पड्) । सक्र. आरहिअ (अभि ६०) ।

आरहत } वि [आरहत] अरहं का, जिन-आरहविय } देव सम्बन्धी, 'आरहतेहि' (दस ६, ४, ४, पव २—गाथा १७०) ।

आरा स्त्री [आरा] लोहे की सलाई, पेने मे डाली जाती लोहे की स्त्रीली (पण्ड १, १, न ३८) ।

आरा म [आरात्] १ अर्वाक्, पहले (दे १, ६३) । २ पूर्व-भाग (विसे १७४०) ।

आराइअ वि [दे] १ गृहीत, स्वीकृत । २ प्राप्त (दे १, ७०) ।

आराडि स्त्री [आराटि] चोत्कार, चिल्लाहट (सुख २, १५) ।

आराडी स्त्री [दे] देखो आरडिअ (दे १, ७५) ।

आराम पु [आराम] बगीचा, उपवन (औप, णया १, १) ।

आराम पुन [आराम] बगीचा, उपवन, 'आरा-माणी' (आचा २, १०, २) ।

आरामिअ पु [आरामिअ] माली (कुमा) ।

आराव पु [आराव] शब्द, आवाज (स ६७७, गड) ।

आराह सक [आ + राधय्] १ सेवा करना, भक्ति करना । २ ठीक-ठीक पालन करना । आराहइ, आराहेइ (महा, भग) । वक्र आराहत (रण ७०) । सक्र. आरा-हिता, आराहेता, आराहिऊण (कप्प, भग, महा) । हेक आराहिउ (महा) ।

आराह वि [आराध्य] आराधन-योग्य (आरा ११) ।

आराहग वि [आराधक] १ आराधन करने-वाला । २ मोक्ष का साधक (भग ३, १) ।

आराहण न [आराधन] १ सेवना (आरा ११) । २ अनशन (राज) ।

आराहणा स्त्री [आराधना] १ सेवा, भक्ति । २ परिपालन (णया १, १२, पचा ७) । ३ मोक्ष-मार्ग के अनुकूल वर्तन (पक्खि) । ४ जिसका आराधन किया जाय वह (आरा १) ।

आराहणा स्त्री [आराधना] आवश्यक, साम-यिक आदि पट्-कर्म (अणु ३१) ।

आराहणी स्त्री [आराधनी] भाषा का एक प्रकार (दस ७) ।

आराहिय वि [आराधित] १ सेवित, परि-पालित (सम ७०) । १ अनुरूप, योग्य (स ६२३) ।

आरिट्टि वि [दे] यात, गत, गुजरा हुआ (पड्) ।

आरिय न [आर्यत] आगमन (राय १०१) ।

आरिय देखो अज्ज = आर्या । (भग, पड्, सुपा १२८, पउम १४, ३०, सुर ८, ६३) ।

आरिय वि [आरित] सेवित, 'आरिओ आ-रिओ सेवितो वा एगट्टित्' (आचू) ।

आरिय वि [आरारित] आहूत, बुलाया हुआ, 'आरिओ आगारिओ वा एगट्टा' (आव) ।

आरिया देखो अज्जा = आर्या (प्राह) ।

आरिअ वि [दे] अर्वाक् उत्पन्न, पहले जो उत्पन्न हुआ हो (दे १, ६३) ।

आरिस वि [आर्प] ऋषि-सम्बन्धी (कुमा) ।

आरिहय देखो आरहत (दस १, १ टी) ।

आरुग देखो आरोग = आरोग्य, 'आरुग-वोहिलाम समाहिवरुमुतम दिनु' (पडि) ।

आरुट्टि वि [आरुट्ट] क्रुद्ध, रूट (पउम ५३, १४१) ।

आरुण (अप) सक [आ + र्णिप्] आलिङ्गन करना । आरुणइ (प्राक ११६) ।

आरुभ देखो आरुह = आ + रुह् । वक्र आरुभमाण (कस) ।

आरुवणा देखो आरोवणा (विसे २६२८) ।

आरुस सक [आ + रुप्] क्रोध करना, रोष करना । सक्र. आरुसस (सूत्र १, ५) ।

आरुसिय वि [आरुट्ट] क्रुद्ध, कुपित (णया १, २) ।

आरुह सक [आ + रुह्] ऊपर चढना, ऊपर बैठना । आरुहइ (पड्, महा) । आरुहइ (भग) । वक्र आरुहत, आरुहमाण (से ५, १६, आ३६) । सक्र. आरुहिऊण, आरुहिय (महा, नाट) । हेक आरुहिउ (महा) ।

आरुह वि [आरुह] उत्पन्न, उद्भूत, जात, 'गामाहइ म्हि गामे, वसामि नअरट्टिइं ए आणामि । एणअरिआण पइयो हरेमि जा होमि सा होमि' (गा ७०५) ।

आरुहण न [आरोहण] ऊपर बैठना (णया १, २, गा ६३०, सुपा २०३, विपा १, ७ गड) ।

आरुहण न [आरोहण] आरोपण, ऊपर चढाना (पव १५५, राय १०६) ।

आरुहिय वि [आरोपित] १ स्थापित । २ ऊपर बैठाना हुआ (से ८, १३) ।

आरुहिय } वि [आरुड] १ ऊपर चढा हुआ आरुड (महा) । २ कृत, विहित, 'तीए पुराणा पउणा आरुहिया दुक्करा मए सामि' (पउम ८, १६१) ।

ईसर पुं [ईश्वर] अणिमा आदि आठ प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न (अणु २२) ।

ईसरिय न [ईश्वर्ये] वैभव, प्रभुता, ईश्वरपन (पञ्च ८६, ६३) ।

ईसा स्त्री [ईषा] १ लोकपालो की अग्रमहिषियो की एक पार्षदा (ठा ३, २) । २ पिशाचन्द्र की एक परिषद् (जीव ३) । ३ हल का एक काष्ठ (दे २, ६६) ।

ईसा स्त्री [ईषा] ईर्ष्या, द्रोह (गजड) । ० रोस पु [०रोष] क्रोध, गुस्सा (कप्प) ।

ईसाइय वि [ईर्ष्यायित] जिसको ईर्ष्या हुई हो वह (सुपा ६१) ।

ईसाण पुं [ईशान] १ देवलोक-विशेष, दूसरा देवलोक (सम २) । २ दूसरे देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३) । ३ उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान-कोण (सुपा ६८) । ४ मुहूर्त्त-विशेष (सम ५१) । ५ दूसरे देवलोक के निवासी देव (ठा १०) । ६ प्रभु, स्वामी (दिन) । ० अहिरराज न [०वितसक] विमान-विशेष का नाम (सम २५) ।

ईसाण पुं [ईशान] अहोरात्र का ग्यारहवाँ मुहूर्त्त (सुज १०, १३) ।

ईसाणा स्त्री [ऐशानी] ईशान-कोण (ठा १०) ।

ईसाणी स्त्री [ऐशानी] १ ईशान-कोण । २ विद्या-विशेष (पञ्च ७, १४१) ।

ईसालु वि [ईर्ष्यालु] ईर्ष्यालु, असहिष्णु, द्वेषी (महा, गा ६३४, प्राप्) । स्त्री ० पी (पञ्च ३६, ४५) ।

ईसास देखो इस्सास, 'ईसासद्वारा' (निर. पि १६२) ।

ईसि अ [ईपत्] १ थोडा, अल्प (परण ३६) । २ पृथिवी-विशेष, सिद्धि-क्षेत्र, मुक्त-भूमि (सम २२) । ० पञ्चभार वि [०प्राग्भार] थोडा भवनत (पचा १८) । ० पञ्चभारा स्त्री [०प्राग्भारा] पृथिवी-विशेष, सिद्धि क्षेत्र (ठा ८, सम २२) ।

ईसिअ न [ईर्षियत] १ ईर्ष्या, द्वेष (गा ५१०) । २ वि. जिसपर ईर्ष्या की गई हो वह (दे २, १६) ।

ईसिअ न [दे] १ भील के सिर पर का पत्र-

पुट, भीलो की एक तरह की पगडी । २ वि वशीकृत, वश किया हुआ (दे १, ८४) ।

ईसिं १ देखो ईसि (महा, सुर २, ६६; कन ईसीं) पि १०२) ।

ईह सक [ईक्ष, ईह] १ देखना । २ विचारना । ३ चेष्टा करना । ईहए (विसे ५६१) । वक्र ईहंत, ईहमाण (गजड, सुपा ८८, विसे २५८), सक्क 'अग्निप्राणो ईहि-ऊण मइयुक्क' (पञ्च ८६, विसे २५७) । ईहण न [ईहण] नीचे देखो (आप् १) ।

ईहा स्त्री [ईहा] १ विचार, ऊहापोह, विमर्श (णाय १, १, सुपा ५७२) । २ चेष्टा, प्रयत्न (शोध ३) । ३ मति-ज्ञान का एक भेद (परण १५, ठा ५) । ४ इच्छा (स ६१२) । ० मिग, ०मिय पुं [०भृग] १ वृक, भेडिया (णाय १, १, अग ११, ११) । २ नाटक का एक भेद (राय) ।

ईहा स्त्री [ईक्षा] अगलोकन, विलोकन (श्रीप) । ईहिय वि [ईहित] चेष्टित (सुम १, १, ३) । २ विमर्शित, विचारित, ईहा-विषयीकृत (विसे २५७) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवो ईभाराइसद्सकलणो
शाम चउत्थो तरगो समतो ॥

उ

उ पु [उ] प्राकृत वरुणमाला का पञ्चम अक्षर, स्वर-विशेष (प्राप्) । २ उपयोग रखना, ब्याल करना, 'उत्ति उवभोगकरणे' (विसे ३१६८) । ३ गति-क्रिया (भावप) ।

उ अ [उ] निम्नोक्त अर्थों का सूचक अव्यय—
१ सवीचन, आमन्त्रण । २ कोप-वचन, क्रोधोक्ति । ३ अनुकम्पा, दया । ४ नियोग, हुक्म । ५ विस्मय, आश्चर्य । ६ अगीकार, स्वीकार । ७ प्ररन, वृच्छा (हि २, २१७) ।

उ अ [उ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
विशेषण । २ कारण (वव १) ।

उ अ [उ] इन अर्थों का द्योतक अव्यय—
समुच्चय, और (कप्प) । २ भवधारण, निश्चय (भावप) । ३ किन्तु, परन्तु (ठा ३, १) । ४ नियोग, आज्ञा । ५ प्रशंसा । ६ विनिग्रह । ७ शका की निवृत्ति (उव) । ८ पादपुत्ति के लिए भी इत्सका प्रयोग होता है (उव) ।

उ देखो उव, 'उग्रो उवे' (पड २, १, ६८) ।

उ अ [उत्] निम्नोक्त अर्थों का सूचक अव्यय—
१ ऊँचा, ऊर्ध्व, 'उत्तमत' (भावप) । २ विपरीत, उलटा; 'उत्तम' (विने) । ३ अभाव, रहितता; 'उत्तर' (णाय १, १) । ४ ज्यादा,

विशेष; 'उत्कोविय' (उपपृ ७८, विने ३५७६) ।

उअ अ [उ] विलोकन करो, देखो (दे १, ८६ टी. हे २, २११) ।

उअ अ [उत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ विकल्प, अथवा । २ वितर्क, विमर्श (सुमा) । ३ प्ररन, वृच्छा । ४ समुच्चय । ५ बह्वन, प्रतिशय (हे १, १७२) ।

उअ अ [उ] श्चु, मरल (पड) ।

उअ देगो उव (गा ५०, मे ६, ६) ।

उअ न [उत्] पानी, जन । 'सिंधु पुं [०सिन्धु] समुद्र, सागर (दि ३५०) ।

यावज्जीव, जीवन-पर्यन्त (आव) । °कहा ली [°कथा] जीवन-पर्यन्त, 'घरणा आवकहाए युक्कुलवास न मुचति' (उप ६८१) । °कहिय वि [°कथिक] यावज्जीविक, जीवन-पर्यन्त रहनेवाला (ठा ६, उप ५२०) ।

आव पु [आप] १ प्राप्ति, लाभ (परह २, १) । २ जल का समूह । °वहुल न [°बहुल] देखो आठ-बहुल (कस) ।

आव सक [आ + या] आना, आगमन करना, 'वणवसिराएवि निच्च आवइ निदासुह ताए' (सुपा ६४७) । आवइ (नाट) । आवति (सग १६२) ।

आवआस सक [उप + गूह] शालिगन करना । आवआसइ (प्राक ७४) ।

आवइ ली [आपट्] आपत्ति, विपत्, सकट (सम ५७, सुपा ३२१, सुर ४, २१५, प्रासू ५, १५६) ।

आवग पु [दे] अपामार्ग, वृक्ष विशेष, लट्जीरा (दे १, ६२) ।

आवहु वि [आपाण्डु] थोडा सफेद, फीका (गा २६१) ।

आवहुर वि [आपाण्डुर] ऊपर देखो (से ६, ७४) ।

आवत देखो जावत, 'आवती के यावती लोगसि समणा य माहणा य' (आचा १, ४, २, ३, १, ५, २, १, ४, पि ३५७) ।

आवगण न [आवलान] श्रद्ध पर चढने की कला (मवि) ।

आवञ्ज वि [अपत्यीय] अपत्य-स्थानीय (कप) ।

आवज्ज देखो आओज्ज (हे १, १५६) ।

आवज्ज श्रक [अ + पट्] प्राप्त होना, लाभ होना । आवज्जइ (कस) । क आवज्जियव्व (परह २, ५) ।

आवज्ज नक [आ + वर्ज] १ समुल करना । २ प्रसन्न करना, 'आवज्जति युणा वतु मउहपि जण ममच्छरिय' (स ११) ।

आवज्ज नक [आ + पट्] प्राप्त करना । भावज्ज (उत् ३२, १०३) । आवज्जे (सूत्र १, १, २, १६, २०), आवज्जसु (सुल २, ६) ।

आवज्ज } वि [आवर्ज, °क] प्रोखुत्पादक
आवज्जग } (पिट ४३८) ।

आवज्जण न [आवर्जन] १ समुल करना । २ प्रसन्न करना (आचू) । ३ उपयोग, ब्याल । ४ उपयोग-विशेष । ५ व्यापार-विशेष (विसे ३०५१) ।

आवज्जिय वि [आवर्जित] १ प्रसन्न किया हुआ । २ अभिमुख किया हुआ (महा, सुर ६, ३१, सुपा २३२) । °करण न [°करण] व्यापार-विशेष (आचू) ।

आवज्जिय देखो आउज्जिय = आतोद्यिक (कुमा) ।

आवज्जीकरण न [आवर्जाकरण] उपयोग-विशेष या व्यापार-विशेष का करना, उदीर-एावतिका मे कर्म-प्रक्षेप रूप व्यापार (श्रौप, विसे ३०५०) ।

आवट्ट श्रक [आ + वृत्] १ चक्र की तरह घूमना, फिरना । २ विलीन होना । ३ सक शोषण करना, सुखाना । ४ पीडना, दुःखी करना । आवट्टइ (हे ४, ४१६, सूत्र १, ५, २) । वक्क आवट्टमाण (से ५, ८०) ।

आवट्ट देखो आवत्त (आचा, सुपा ६४, सूत्र १, ३) ।

आवट्टणा ली [आवर्तना] आवर्तन (प्राक ३१) ।

आवट्टिआ ली [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ परतन्न ली (दे १, ७७) ।

आवड देखो आवत्त = आवर्त्त (राय ३०) ।

आवड सक [आ + पत्] १ आना, आगमन करना । २ आ लगना । वक्क आवडत (प्रासू १०६) ।

आवडण न [आपतन] १ गिरना (से ६, ४२) । २ आ लगना (स ३८४) ।

आवणवीहि ली [आपणवीथि] १ हट्ट-मार्ग, बाजार । २ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहल्ला (राय १००) ।

आवडिअ वि [आपतित] १ गिरा हुआ (महा) । २ पास मे आया हुआ (से १४, ३) ।

आवडिअ वि [दे] १ सगत, सबद्ध (दे १, ७८, पात्र) । २ सार, मजवूत (दे १, ७८) ।

आवण पु [आपण] १ हाट, दूकान (णया १, १, महा) । २ बाजार (प्राणा) ।

आवणिय पु [आपणिक] सौदागर, व्यापारी (पात्र) ।

आवण्य वि [आपन्न] १ आपत्ति-युक्त । २ प्राप्त (गा ४६७) । °सत्ता ली [°सत्त्वा] गर्भिणी, गर्भवती ली (अभि १२४) ।

आवण्य वि [आपन्न] आश्रित (सूत्र १, १, १, १६) ।

आवत्त सक [आ + वृत्] आना, 'नावत्तइ नागच्छइ पुणो भवे तेण अपुणराविति' (चैड्य ३६६) ।

आवत्त श्रक [आ + वृत्] १ परिभ्रमण करना । २ बदलना । ३ चक्रकार घूमना । ४ सक पठित पाठ को याद करना । ° घुमाना । आवत्तइ (सूक्त ५१) । वक्क अत्तमाण, आवत्तमाण (हे १, २७१, कुमा) ।

आवत्त पु [आवर्त्त] १ चक्रकार परिभ्रमण (स्वप्न ९६) । २ मुहूर्त्त-विशेष (सम ५१) । ३ महाविदेह क्षेत्रस्य एक विजय (प्रदेश) का नाम (ठा २, ३) । ४ एक खुखाला पशु-विशेष (परह १, १) । ५ एक लोकपाल का नाम (ठा ४, १) । ६ पर्वतविशेष (ठा ६) । ७ मरिण का एक लक्षण (राय) । ८ ग्राम-विशेष (आवम) । ९ शारीरिक चेष्टा-विशेष, कायिक ध्यापार-विशेष, 'दुवालसावते किति-कम्मे' (सम २१) । °कूड न [°कूट] पर्वत-विशेष का शिखर विशेष (इक) । °यत्त वक्क [°यमान] दक्षिण की तरफ चक्रकार घूमने-वाला (भग ११, ११) ।

आवत्त पुन [आवर्त्त] १ एक तरह का जहाज (सिदि ३८३) । २ न लगातार २५ दिनों का उपवास (सवोष ५८) ।

आवत्त न [आतपन्न] छत्र, छाता (पात्र) । आवत्तण न [आवर्त्तन] चक्रकार भ्रमण (हे २, ३०) । °षेडिया ली [°पीठिका] पीठिका-विशेष (राय) ।

आवत्तय पु [आवर्त्तक] देखो आवत्त । १० वि चक्रकार भ्रमण करनेवाला (हे २, ३०) ।

आवत्ता ली [आवर्त्ता] महाविदेह-क्षेत्र के एक विजय (प्रदेश) का नाम (इक) ।

आवत्ति ली [आपत्ति] १ दोष-प्रसंग, 'सव्व-विमोक्खावती' (विसे १६३४) । २ आपदा, कष्ट । ३ उत्पत्ति (विसे ६६) ।

आपत्ति ली [जापत्ति] प्राप्ति (उत्तर ८७३) ।

उईरण देखो उदीरण (ठा ४, पुष्प १६५)।
उईरणया } देखो उदीरणा (विसे २५१५,
उईरणा } टी, कम्मप १५८, विसे २६६२)।

उईरिय देखो उदीरिय (पुष्प २१६)।

उउ वि [उउतु] १ ऋतु, दो मास का काल विशेष, वसन्त आदि छ प्रकार का काल (श्रीप, अन्त ७), 'उऊए', 'उऊइ' (कप्प)। २ श्री-कृसुम रजो दर्शन, स्त्री-धर्म (ठा ५, २)। ३ बद्ध पु [बद्ध] शीत और उष्णकाल, वर्षा-काल के अतिरिक्त आठ मास का समय (श्रीघ २६, २६९, ३४८)। ४ मास पु [मास] १ श्रावण मास (वव १ टी)। २ तीस दिनवाला मास (सम)। ३ य वि [ज] ऋतु मे उत्पन्न, समय पर उत्पन्न होनेवाला (परह २, ५, श्याया १, १), 'उयअपुस्वर-पवरश्रुवणउउयमत्साएणुलेवणविहीसु। गधेषु रज्जमाणा रमति धारिणदिपवसट्टा' (श्याया १, १७)।

४ सधि पुस्त्री [सधि] ऋतु का सन्धि-काल, ऋतु का अन्त समय (धाचा)। ५ सवच्छर पु [सवत्सर] वर्ष-विशेष (ठा ५)। देखो उइ = उउ।

उउवर देखो उवर = उदुम्बर (कुमा, हे १, २७०, पड्)।

उउवहिय न [उउवह] मास-कल्प, एक मास तक एक स्थान मे साधु का निवास-गृहण (धाचा २, २, ७)।

उऊखल } पुन [उऊखल] उऊखल, गुणल
उऊहल } (कुमा, पड्, हे १, १७१)

उएट्ट पु [दे] शिल्प विशेष (अणु १४६)।
उओनिगाअ वि [दे] सम्बद्ध, सयुक्त (पड्)।
उं अ [दे] इन अर्थों का सूचक अर्थय—१ जेप, निन्दा। २ विस्मय। ३ खेद। ४ वितर्क। ५ सूचन (प्राग् ७६)।

उघ अक [नि + ट्रा] नीव लेना। उघइ। (हे ४, १२)।

उचहिआ स्त्री [दे] चरुवारा (दे १, १०६)।

उछ पुन [उछ] भिक्षा (सूम १, २, ३ १४)।

उछ पु [उछ] भिक्षा, माधुकरी (उन ६७७, श्रीघ ४२४)।

उछअ पु [दे] वस्त्र छापने का काम करने वाला शिल्पी, छापी, जो कपडा छापता है, छोट वनाता है वह (दे १, ६८, पात्र)।
उज सक [सिञ्] सीचना, छोटकना।
उजिआ (राज)। भवि—उजिस्सइ (सुपा १३६)।

उज सक [युज्] प्रयोग करना, जोडना, 'अहमवि उजेमि तह किपि' (धम्म ८ टी)।
उजायण न [उजायन] गोत्र-विशेष, जो वशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७)।

उजिअ वि [सिक्त] सिक्त, छोटका हुमा (सुपा १३६)।

उड } वि [दे] १ गभीर, गहरा (दे १,
उडग } ८५, सुपा १५, उप १४७ टी, ठा
उडय } १०, आ १६)। २ पु पिएड, 'वालाई मसउडग मज्जारई विराहेज्जा' (श्रीघ २४६ भा)। ३ चलते समय पंथ मे पिएड रूप से लग जाय उतना गहरा कीचड, कदम (श्रीघ ३३ भा)। ४ शरीर का एक भाग, मास पिड, 'हियउडडए' (विपा १, ५)।

उडग } न [दे] स्थूल स्थान, जगह (दस
उडुअ } ४, १, ५, १, ८७)।

उडल न [दे] १ मन्व, मचान, उवासन।
२ निकर, समूह (दे १, १२६)।

उडिया स्त्री [दे] मुद्रा-विशेष (राज)।

उडी स्त्री [दे] पिएड, गोलाकार वस्तु, 'तय एणा वरमज्जी दो पुट्टे परियागते पिट्टु-डीपड्डे निव्वणे निव्वहए मिन्नमुट्टिपमाणे मज्जीअए पसवति' (श्याया १, ३)।

उदर } पुस्त्री [उन्दुर] मूषक, चूहा (गउड,
उदुर } परह १, १, उवा, दे १, १०२)।

उदु न [दे] मुख, मुंह (अणु २६)। २ रुक न [दे] मुंह से वृषण आदि की तरह आवाज करना (अणु २६)।

उदुरअ पु [दे] लम्बा दिन (दे २, १०५)।

उदुरु पुस्त्री [उन्दुरु] मूषक, चूहा (दम २, ७)।

उव पु [उम्] वृज विशेष, 'निव्वउउउउउ' (उप १०२१ टी)।

उवर पु [उदुम्बर] १ वृज-विशेष, गुजर का पेड (परण १)। २ न गुजर का फल (प्राग्)। ३ देही, डार के नीचे की लपटी (दे १, ६०)। ४ उत्त पु [उत्त] १ यज्ञ-

विशेष (विपा १, ७)। २ एक सार्यवाह का पुत्र (विपा १, ७)। ३ पचग, पणप न [पञ्चक] बड, पीपल, गुजर, फल और काकोदुम्बरी इन पाच वृक्षों के फल (सुपा ४६, भग ६, ३३)। ४ पुष्प न [पुष्प] गुजर का फूल (भग ६, ३३)।

उवर वि [दे] बहुत, प्रवृत्त (दे १, ६०)।

उवरउप्प न [दे] नवीन अणुदय, मपूष उन्नति (दे १, ११६)।

उवरय पु [दे] कुछ रोग का एक भेद (निरि ११४)।

उवा जी [दे] कन्य (दे १, ८६)।

उवी जी [दे] पका हुआ गेहूँ (दे १, ८६, सुपा ४७३)।

उवेभरिया स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (परण १)।

उभ सक [दे] पूर्ति करना, पूरा करना (राज)।

उकिट्ट देखो उकिट्ट (पिंग)।

उकुरुडिया [दे] देखो उकुरुडिया (निरि १, १)।

उक वि [उत्त] १ उत्तुक, उत्कृष्ट (पुर ३, ५३)। एक विद्याघर राजा का नाम (पउम १०, २०)।

उक वि [उत्त] कथित (पिंग)।

उक न [दे] पाद-पतन, पाद पर गिर क नमस्कार करना (दे १, ८५)।

उकअ वि [दे] प्रवृत्त, फैला हुआ (पट्)।

उकचण } न [दे] १ सूटी प्रसता रत्ना,
उकचणया } सुशामद (श्याया १, २)। २

ऊँचा करना, उठाना (सूय २, २)। ३ नाट निकासना (निच् ५)। ४ पूत, रिशत (दसा २)। ५ मूल पुष्प या उमनेमान पु

का, नमीपस्य विचक्षण पुरुष के भय मे घाँटे के लिए निरचेष्ट रहना (श्रीप)। ६ वीरु [दीप] ऊँचा धटमाना प्रदीप (धम्म)

उकळण न [दे] देना उकळण (राज)।

उम्पठ अर [उ + पण्ड] उम्पठ करना, उमुप होना। उम्पठि (मे ७३) वा उम्पठल (मे ६३)। हेइ उम्पठि (जी) (मनि १४०)।

उम्पठ स्त्री [उम्पठ] उम्पठ, सीमुप (हे १, २५, ३०)।

आवाह सक [आ + वाह्य्] १ सानिध्य के लिए देव या देवाधिष्ठित चीज को बुलाना । २ बुलाना । सक आवाहिवि (अप) (भवि) ।
 आवाह पु [आबाध] पीडा, बाधा (विपा १, ६) ।
 आवाह पु [आवाह] १ नव-परिणीता वधु को घर के घर लाना (पह् २, ५) । २ विवाह के पूर्व किया जाता पान देने का एक उत्सव (जीव ३) ।
 आवाहन न [आवाहन] आह्वान (विसे १८३) ।
 आवाहिय वि [आवाहित] १ बुलाया हुआ, आहूत (भवि) । २ मदद के लिए बुलाया हुआ देव या देवाधिष्ठित वस्तु, 'एव च भगवतेषु आवाहियाइ सत्याइ' (सुर ८, ४२) ।
 आवि न [दे] १ प्रसव-पीडा । २ वि नित्य, शाश्वत । ३ दृष्ट, देखा हुआ (दे १, ७३) ।
 आवि अ [चापि] समुच्चय-द्योतक अव्यय (कप्प) ।
 आवि अ [आविस्] प्रकटता-सूचक अव्यय (सुर १४, २११) ।
 आविअ सक [आ + पा] पीना, 'जहा दुमस्त पुण्हे भमरो आविअइ रस' (दस १, २) ।
 आविअ वि [आवृत] आच्छादित (से ६, ६२) ।
 आविअ पु [दे] १ इन्द्रगोप, सुद्र क्रीट-विशेष । २ वि मथित, आलोडित (दे १, ७६) । ३ प्रोत (दे १, ७६, पात्र, षड्) ।
 आविअ वि [आविच] अविच-देशोत्पन्न (राय) ।
 आविअङ्गलौ [दे] १ नवोढा, दुलहिन । २ परतन्त्रा, पराधीन लौ (दे १, ७७) ।
 आविध सक [आ + व्यध्] १ विघना । २ पहनना । ३ मन्त्र से अधीन करना ।
 आविध (शक ३८) । आविधामो (पि ८९) ; 'पालव वा सुवराणमुत्त वा आविधेन परिणयेन वा' (आचा २, १३, २०) ।
 वमं आविधम्ह (उव) ।
 आविधण न [आव्यधन] १ पहनना । २ नन्त्र से प्राणित करना, मन्त्र से अधीन करना (पह् १, २; शक ३८) ।

आविकम्म पुन [आविष्कर्मन्] प्रकट-कर्म, प्रकटरूप से किया हुआ काम (आचा २, १५, ५) ।
 आविग्ग वि [आविग्ग] उद्विग्न, उदासीन (से ६, ८६, १३, ६३, दे ७, ६३) ।
 आविट्ठ वि [आविष्ट] १ आवृत, व्याप्त (सम ५१, सुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सुअ १, ३) । ३ अधिष्ठित, आश्रित (आ ५, भास ३६) ।
 आविट्ठ वि [आविष्ट] भूत आदि के उपद्रव से युक्त (सम्मत्त १७३) ।
 आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित, पहना हुआ (कप्प) ।
 आविद्ध वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (दे १, ६३) ।
 आविन्भाव पु [आविर्भाव] १ उत्पत्ति । २ प्रादुर्भाव, अभिव्यक्ति, 'आविन्भावतिरोभावमेतपरिणामिद्वन्वेवाय' (विसे) ।
 आविन्भूय वि [आविर्भूय] १ उत्पन्न । २ प्रादुर्भूय (कप्प) । ३ अभिव्यक्त (सुर १४, २११) ।
 आविलि वि [आविलि] १ मलिन, अस्वच्छ (सम ५१) । २ आकुल, व्याप्त (सुअ १, १५) ।
 आविलिअ वि [दे] कुपित, क्रुद्ध (षड्) ।
 आविलुपिअ वि [आकाङ्क्षित] अभिलषित (दे १, ७२) ।
 आविस सक [आ + विश्] प्रवेश करना, घुसना । आविसेइ (सम्मत्त १७३) ।
 आविस अक [आ + विश्] १ सबद्ध होना युक्त होना । २ सक उपभोग करना, सेवना, 'परदारमाविसामित्ति' (विसे ३२५६) ;
 'ज ज समय जीवो, आविसई जेण जेण भावेण । सो तम्मि तम्मि समए, सुहसुह वधए कम्म' (उव)
 आविहव अक [आविर् + भू] १ प्रकट होना । २ उत्पन्न होना । आविहवइ (स ४८) ।
 आविह्वअ देखो आविन्भूय (स ७१८) ।
 आवी देखो आवि = आविस्, 'आवी वा जइ वा रहस्से' (उत्त १, १७, सुत्त १, १७) ।
 'कम्म देखो आविकम्म (आचा २, १५, ५) ।
 आवीअ वि [आपीत] १ पीत । २ शोषित (से १३, ३१) ।
 आवीइ वि [आवीचि] निरन्तर, अविच्छिन्न,

'गन्धमपिभिहमावीइसलिलच्छेए सर व सुसत । अणुसमयं मरमाणे, जीयति जणो कहं भणइ ?' (सुपा ६५१) ।
 *मरण न [मरण] मरण-विशेष (भग १३, ७) ।
 आवीकम्म न [आविष्कर्मन्] १ उत्पत्ति । २ अभिव्यक्ति (आ ६, कप्प) ।
 आवीड सक [आ + पीड्] १ पीडना । २ दवाना । आवीडइ (सण) ।
 आवीण न [आपीन] स्तन, थन (गजड) ।
 आवील देखो आमेल = आपीड (स ३१५) ।
 आवील देखो आवीड । सक. आवीलयण (आचा २, १, ८, १) ।
 आवीलण न [आपीडन] समूह, निचय (गजड) ।
 आवुअ पुं [आवुक] नाटक की भाषा मे पिता, बाप (नाट) ।
 आवुण्ण वि [आपूर्ण] पूर्ण, भरपूर (दे २, १०२) ।
 आवुत्त पुं [दे] भगिनी-पति (अभि १८३) ।
 आवुद वि [आवृत्] ढका हुआ (प्राक् ८, १२) ।
 आवुदि ली [आवृत्ति] आवरण (प्राक् ८, १२) ।
 आवृणो आपूर = आ + पूर्य् । वक्क आवृणो (पजम ७६, ८) । कवक. आवृण्णि-माण (स ३८२) ।
 आवूरण न [आपूरण] पूर्ति (स ८३२) ।
 आवूरिय देखो आजरिय (पजम ६४, ५२ स ७७) ।
 आवेअ सक [आ + वेदय्] १ विनक्ति करना, निवेदन करना । २ बतलाना । आवे-एइ (महा) ।
 आवेअ पु [आवेग] कष्ट, दुख (से १०, ५७, ११, ७२) ।
 आवेवं देखो आवा ।
 आवेडिदय वि [आवेष्टित] वेष्टित, धिरा हुआ (गा २८) ।
 आवेड देखो आमेल (हे २, २३४, आवेडय कुमा) ।
 आवेड पु [आवेष्ट] १ वेष्टन । २ मण्डलाकार करना (से ७, २७) ।

उक्करिसण न [उत्कर्षण] १ उत्कर्ष, बढाई, महत्व । २ स्थापन, आघान ,

'उम्मिल्लइ लायएण
पययच्छायाए सक्कय वयाए ।
सक्कयसक्काक्करिसणोए
पययस्सवि पहावो ॥' (गउड) ।

उक्करिसिय वि [उत्कृष्ट] खीच निकाला
हुआ, उन्मूलित (से १४, ३) ।

उक्कल देखो उक्कड (ठा ५, ३) ।

उक्कल अक [उत् + कल्] उत्कट रूप से
बरतना । उक्कलइ (सुख २, ३७) ।

उक्कल वि [उत्कल] १ धर्म-रहित । २ न
चोरी (परह १, ३, टी) । २ पु देश-विशेष,
जिसको आजकल 'उडिया' या 'उडीसा'
कहते हैं (प्रबो ७८) ।

उक्कलव सक [उत् + लम्बय्] फाँसी
लटकाना । उक्कलवेसि (स ६३) ।

उक्कलवण न [उल्लम्बन] फाँसी लटकाना ।
(स ३५८) ।

उक्कला देखो उक्कलिया (उत् ३६, १३८) ।
उक्कलिय वि [दे] ज्वला हुआ, गुजराती में
'उकलेलु', 'उसिणोदग तिदडुकलिय' (विचार
२६७) ।

उक्कलिया स्त्री [उत्कलिका] १ बूटा, मकड़ी
एक प्रकार का कौडा जो जाल बनाता है,
'उक्कलियडे' (कप्प) । २ नीचे की तरफ
बहनेवाला वायु (जी ७) । ३ छोटा समुदाय,
समूह-विशेष (ठा ३, १) । ४ लहरी, तरंग
(राज) । ५ ठहर-ठहर कर तरंग की तरह
चलनेवाला वायु (आचा) ।

उक्कस सक [गम्] जाना, गमन करना ।
उक्कसइ (हे ४, १६२, कुमा) । प्रयो
उक्कसावेइ । वक्क उक्कसावत (निचू १०) ।
उक्कस देखो ओकस । वक्क उक्कसमाण
(कुमु) हेक्क उक्कसित्तए (आचा २, ३,
१, १५) ।

उक्कस देखो उक्कुस (कुमा) ।

उक्कस देखो उक्कस्स = उत्कर्ष (सूत्र १,
१, ४, १२), 'तवस्ती अइउक्कसो' (दस ५,
२, ४२) ।

उक्कसण न [उत्कर्षण] १ अभिमान करना

(सूत्र १, १३) । २ ऊँचा जाना । ३
निवर्तन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) ।

उक्कसाइ वि [उत्कशायिन] सत्कारादि के
लिए उत्कथित (उत्ता ३) ।

उक्कसाइ वि [उत्कपायिन] प्रबल कपाय-
वाला (उत्त १५) ।

उक्कस्स अक [अप+कृप्] १ हास प्राप्त
होना, हीन होना । २ फिपलना, गिरना, पैर
रपटने से गिर जाना । वक्क उक्कस्समाण
(ठा ५) ।

उक्कस्स पु [उत्कर्ष] १ गर्व, अभिमान (सूत्र
१, १, ४, २) । २ अतिशय, उल्लुपता
(भवि) ।

उक्कस्स वि [उत्कर्षवन्] १ उल्लुप, ज्यादा
से ज्यादा, 'उक्कस्सठिईयाए' (ठा १, १,),
'उक्कस्सा उदीरणाया' (कम्मप १६६) ।
२ अभिमानो, गर्विष्ठ (सूत्र १, १) ।

उक्का स्त्री [उत्का] १ लूका, आकाश से जो
एक प्रकार का अगार सा गिरता है (ओध
३१० भा, जी ६) । २ छिन्न-मूल दिग्दाह
(आचू) । ३ अग्नि पिण्ड (ठा ८) । ४
आकाश-बहि (दस ४) । 'सुह पु [सुल]
१ अन्तर्द्वीप-विशेष । २ उसके निचामी लोक
(ठा ४, २) । 'वाय पु [पात] तारा का
गिरना, लूका गिरना । (भग ३, ६) ।

उक्का स्त्री [दे] कूप-तुला (दे १, ८७) ।

उक्काम सक [उत् + कामय्] दूर करना,
पीछे हटाना, 'उक्कामयंति जीव धम्माओ
तेण ते कामा' (दसनि २—पत्र ८७) ।

उक्कारिया देखो उक्करिया (परण ११, भास
७) ।

उक्कालिय वि [उत्कालिक] वह शास्त्र
जिसका अमुक समय में ही पढ़ने का विधान
न हो (ठा २, १) ।

उक्कास देखो उक्कस्स = उत्कर्ष (भग १२,
५) ।

उक्कास वि [दे] उल्लुप, ज्यादा से ज्यादा
(पइ) ।

उक्कासिअ वि [दे] उचित, उठा हुआ (दि
१, ११४) ।

उक्किट्ट वि [उत्कृष्ट] १ ज्यादा (पव—गा
१५) । २ पुन. इमली आदि के पत्तों का

समूह (दस ५, १, ३४) । ३ लगातार दो
दिन का उपवास (सबोध ५८) ।

उक्किट्ट वि [उत्कृष्ट] १ उल्लुप, उत्तम (हे
१, १२८, द २६) । २ फल का शस्त्र द्वारा
किया हुआ टुकड़ा (दस ५, १, ३४) ।

उक्किट्टि स्त्री [उत्कृष्टि] हर्षवन्नि, आनन्द
की आवाज (श्रीप. भग २, १) । देवो
उक्किट्टि ।

उक्किण वि [उत्कीर्ण] १ खोदित, खोटा
हुआ (अभि १८२) । २ नट (आचू २) ।

उक्कित्त वि [उत्कृत्त] कटा हुआ (से ५,
५१) ।

उक्कित्तण न [उत्कीर्त्तण] १ कथन (पउम
११८, ६३) । २ प्रशंसा, श्लाघा (चउ १) ।

उक्कित्तिय वि [उत्कीर्त्तित्त] कथित, कहा
हुआ (मुज्ज २० टी) ।

उक्किन्न वि [उत्कीर्ण] १ चचित, उपलित,
'चदणोक्किन्नणायशरीरे' (तदु २६) । २ न्यादा
हुआ (दसनि २, १७) ।

उक्किर सक [उत् + कृ] खोदना, पत्थर आदि
पर अक्षर बगैरह का शल में लिखना ।
उक्किरइ (पि ४७७) ।

उक्किरणग न [उत्करणक] अक्षत आदि से
बढाना, बराबा, बर्बापन, 'पुप्फाएणगाइ
उक्किरणगाइ । पूय च वेइयाए तेनि
सरज्जेसु कारित्ति' (धर्मवि ४६) ।

उक्किरिय देखो उक्किरिअ = उत्कीर्ण (आ
१४, मुपा ५१८) ।

उक्कीर देवा उक्किर । उक्कीरसि (अणु) ।
वक्क उक्कीरमाण (अणु) ।

उक्कीरिअ देखो उक्किरिअ = उत्कीर्ण (उा पु
३१५) ।

उक्कीलिय न [उत्कीर्त्तित्त] उत्तम ऋडा
(पउम ११५, ६) ।

उक्कीलिय वि [उत्कीर्त्तित्त] तीनव में
नियमित, 'उक्कीलियउय परिधमिदव मुनुना
मुक्कजाउय' (मुपा ४७५) ।

उक्कुचग न [उत्कुच्चन] ऊँचे चढाना
(सूत्र २, २, ६२) ।

उक्कुड वि [दे] मत, उमन (२१, ६१) ।

उक्कुक्कुर अक [उत् + स्था] उठग, गढा
होना । उक्कुक्कुरइ (हे ४, १७, पइ) ।

आवाह—आवेढ

आवाह सक [आ + वाहृ] १ सान्निध्य के लिए देव या देवाधिष्ठित चीज को बुलाना । २ बुलाना । सक आवाहिवि (अप) (भवि) ।

आवाह पु [आवाध] पीडा, बाधा (विपा १, ९) ।

आवाह पु [आवाह] १ नव-परिणीता वधू को घर के घर लाना (परह २, ५) । २ विवाह के पूर्व किया जाता पान देने का एक उत्सव (जीव ३) ।

आवाहण न [आवाहन] ग्राहान (विसे १८८३) ।

आवाहिय वि [आवाहित] १ बुलाया हुआ, ग्राह्य (भवि) । २ मन्त्र के लिए बुलाया हुआ देव या देवाधिष्ठित वस्तु, 'एव च भग्यतेषु ग्रावाहियाइ साथाइ' (सुर ८, ४२) ।

आवि न [दे] १ प्रसव-पीडा । २ वि नित्य, आरत । ३ दृष्ट, देखा हुआ (दे १, ७३) ।

आवि म [चापि] समुच्चय-द्योतक अव्यय (कप्) ।

आवि म [आविस्] प्रकटता-सूचक अव्यय (सुर १४, २११) ।

आविअ सक [आ + पा] पीता, 'जहा दुमस्त पुफेसु भमरो आविअइ रस' (दस १, २) । आविअ वि [आवृत्] आच्छादित (से ६, ६२) ।

आविअ पु [दे] १ इन्द्रगोप, सुदृढ कीट-विशेष । २ वि मयित, शालोहित (दे १, ७६) । ३ प्रोत (दे १, ७६, पात्र, षड्) ।

आविअ वि [आविच] अविच-देशोल्लस (राप) ।

आविअम्मा जी [दे] १ नवोडा, बुलहिन । २ परतन्ना, पराधीन जी (दे १, ७७) ।

आविअ सक [आ + व्यध्] १ विघना । २ पहनना । ३ मन्त्र से अवीन करना । आविअ (शक ३८) । आविअामी (पि ८८६) । 'पालव वा सुकरणसुत वा आवि-पेअ पिण्णिअ वा' (आचा २, १३, २०) । वम आविअम्मा (उव) ।

आविअण न [आव्यधन] १ पहनना । २ नम दे धान्णव वरता, मन्त्र से अवीन करना (पर १, २, शक ३८) ।

आविकम्म पुन [आविष्कर्मन्] प्रकट-कर्म, प्रकटलप से किया हुआ काम (आचा २, १५, ५) ।

आविग्ग वि [आविग्ग] उद्विग्न, उदासीन (से ९, ८६, १३, ६३, दे ७, ६३) ।

आविट्ठ वि [आविष्ट] १ आश्रुत, व्याप्त (सम ५१, सुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सूत्र १, ३) । ३ अविष्ठित, अभिष्ट (ठा ५, भास ३६) ।

आविट्ठ वि [आविष्ट] श्रुत आदि के उपद्रव से युक्त (सम्मत्त १७३) ।

आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित, पहना हुआ (कप्) ।

आविद्ध वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (दे १, ६३) ।

आविद्धभाव पु [आविर्भाव] १ उत्पत्ति । २ प्रादुर्भाव, अभिव्यक्ति, 'आविद्धभावतिरोभाव-मेत्तपरिणामिदव्वमेवाय' (विसे) ।

आविद्धभूय वि [आविर्भूत] १ उत्पन्न । २ प्रादुर्भूत (कप्) । ३ अभिव्यक्त (सुर १४, २११) ।

आविळ वि [आविळ] १ मलिन, अस्वच्छ (सम ५१) । २ आकुल, व्याप्त (सूत्र १, १५) ।

आविळिअ वि [दे] कुपित, क्रुद्ध (षड्) ।

आविल्लुपिअ वि [आकाङ्क्षित] अभिलषित (दे १, ७२) ।

आविस सक [आ + विअ] प्रवेश करना, घुसना । आविसइ (सम्मत्त १७३) ।

आविस अक [आ + विअ] १ सबद्ध होना युक्त होना । २ सक उपभोग करना, सेवना, 'परदारभाविसामिति' (विसे ३२५६),

'ज ज समय जीवो, आविसई जेण जेण आवेण । सो तम्मि तम्मि समए, सुहासुह ववए कम्म' (उव)

आविहव अक [आविह + भू] १ प्रकट होना । २ उत्पन्न होना । आविहवइ (स ४८) ।

आविह्वअ देखो आविह्वभूय (स ७१८) ।

आवी देखो आवि = आविस्, 'आवी वा जह वा रहसे' (उत्त १, १७, सुख १, १७) । 'कम्म देखो आविकम्म (आचा २, १५, ५) ।

आवीअ वि [आपीत] १ पीत । २ शोषित (से १३, ३१) ।

आवीइ वि [आवीवि] निरन्तर, अविच्छिन्न,

'गन्धमभिइमावीइसलिलच्छेए सर व सूसतं । अणुसमय मरमाणे, जीयति जणो कहं अराइ' (सुपा ६५१) ।

'मरण न [मरण] मरण-विशेष (भग १३, ७) ।

आवीकम्म न [आविष्कर्मन्] १ उत्पत्ति । २ अभिव्यक्ति (ठा ९, कप्) ।

आवीड सक [आ + पीड] १ पीडना । २ दवाना । आवीडइ (सण) ।

आवीण न [आपीन] स्तन, धन (गडड) ।

आवीळ देखो आमेल = आपीड (स ३१५) । आवीळ देखो आवीड । सक आवीळियाण (आचा २, १, ८, १) ।

आवीळण न [आपीडन] समूह, निचय (गडड) ।

आवुअ पुं [आवुक] नाटक की भाषा में पिता, बाप (नाट) ।

आवुण्ण वि [आपूर्णे] पूर्ण, भरपूर (दे २, १०२) ।

आवुत्त पु [दे] भगिनी-पति (अभि १८३) ।

आवुइ वि [आवृत्] ढका हुआ (प्राक ८, १२) ।

आवुडि जी [आवृत्ति] आवरण (प्राक ८, १२) ।

आवृण्णो आवृण्णो = आवृण्णो + आवृण्णो । वक्क आवृण्णो (पउम ७६, ८) । कवक्क आवृण्णो-माण (स ३८२) ।

आवृण्ण न [आवृण्ण] वृत्ति (म ४३२) ।

आवृण्णिय देखो आवृण्णिय (पउम ६४, ५२ स ७७) ।

आवेअ सक [आ + वेदय्] १ विनक्ति करना, निवेदन करना । २ बतलाना । आवे-एइ (महा) ।

आवेअ पु [आवेग] कष्ट, दुःख (से १०, ५७, ११, ७२) ।

आवेअ देखो आवा ।

आवेइडिय वि [आवेष्टित] वेष्टित, घिरा हुआ (पा २८) ।

आवेड देखो आमेल (दे २, २३४, आवेडय्) कुमा ।

आवेड पु [आवेष्ट] १ वेष्टन । २ मसुलाकार करना (से ७, २७) ।

उकखंद पु [अवस्कन्द] १ बेरा डालना ।
 २ छल मे शत्रु-सैन्य को मारना (परह १, २) ।
 उकखंभ पु [उत्तम्भ] श्रवलम्ब, सहारा
 (सथा) ।
 उकखभिय देखो उत्थंभिय (भवि) ।
 उकखभिय न [औत्तम्भिक] श्रवलम्ब,
 सहारा (राज) ।
 उकखडमड्डा अ [दे] पुन पुन, बारवार,
 'उकखडमड्डति वा भुजो भुजोति वा पुणो
 पुणोति वा एण्ठा' (वव १) ।
 उकखण सक [उत् + खन्] उखाडना, उच्छेदन
 करना, काटना । उकखणगि (परह १,
 १) । सक उकखणिऊण (नीचू १) । कर्ण
 उकखम्मति (पि ५४०) । कवक उकखम्मत
 (से ७, २८) । क उकखम्मिअठव (से
 १०, २६) ।
 उकखण सक [दे] खांडना, मुसल वगैरह से
 वीहि आदि का छिलका दूर करना (दे
 १, ११५) ।
 उकखण वि [दे] श्रवकीर्ण, चूर्णित (पड्) ।
 उकखणण न [उत्खनन] उन्मूलन, उत्पाटन
 (वह १, १) ।
 उकखणण न [दे] खांडना, निस्तुपीकरण
 (दे १, ११५ टी) ।
 उकखणिअ न [दे] खरिडत, निस्तुपीकृत
 (दे १, ११५) ।
 उकखत्त देखो उकखय (पि ६०, १६३,
 ५६६) ।
 उकखम्म देखो उकखण = उत् + खन् ।
 उकखय वि [उत्खात] १ उखाडा हुआ,
 उन्मूलित (राया १, ७, हे १, ६७, षड्,
 महा) । २ खुला हुआ, उद्घाटित,
 'एत्यन्तरम्मि पत्तो, सुदाढविजाहरो तहि भवणे ।
 उकखयलगा विट्ठा, ज्ञायारा तेणवि डुवारे'
 (सुवा ८००) ।
 उकखल } देखो उऊखल (हे २, ६०, सूअ
 उकखलग } १, ४, २, १२) ।
 उकखलिय वि [दे उत्खण्डित] उन्मूलित,
 उत्पाटित (से ६, २६) ।
 उकखलिया } स्त्री [दे] थाली, पात्र-विशेष
 उकखली } (दे १, ८८), 'उकखलिया
 थाली जा साधुणिमित्त सा आहाकम्मिया'
 (निचू १) ।

उकखा स्त्री [ऊखा] थाली, भाजन-विशेष
 (आचा २, १, १) ।
 उकखाइद (शौ) वि [उत्खातित] उद्घृत
 (उतर ६७) ।
 उकखाय देखो उकखय (हे १, ६७, गा
 २७३) ।
 उकखाल सक [उत् + खन्, खाल्य]
 उखाडना, उन्मूलन करना । सक उकखल-
 इत्ता (रभा) ।
 उकखण देखो उकखण = उत् + खन् । उकख-
 णमि (भवि) । सक उकखणिवि (अप)
 (भवि) ।
 उकखणण वि [दे] १ श्रवकीर्ण, ध्वस्त,
 चूर्णित । २ आछन्न, गुप्त । ३ पार्वं मे
 शिथिल, एक तरफ से ढीला (दे १, १३०) ।
 उकखिपत्त } वि [उत्क्षिप्त] १ फेंका हुआ ।
 उकखिपत्तय } २ ऊँचा उढाया हुआ (पाअ) ।
 ३ ऊँचा किया हुआ (राया १, १) । ४
 उन्मूलित, उत्पाटित (राज) । ५ बाहर
 निकाला हुआ (परह २, १) । ६ उत्थित
 (पिंग) । ७ न. गेय-विशेष (राय, ठा ४,
 ४) । चरय वि [चरक] पाक पात्र से
 बाहर निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण करने
 का नियमवाला (साधु) (परह २, १) ।
 उकखिपप देखो उकखिप = उत् + क्षिप् ।
 उकखिय वि [उत्क्षिप्त] सिक, सीचा हुआ,
 'चदणोक्खियगायसरोरे' (सूअ २, २, ५५,
 कप्पू) ।
 उकखिल्ल सक [दे] उखाडना । प्रयो, हेक
 'उकखिल्लविउ माढतो थूमो' (ती ७) ।
 उकखिप सक [उप + क्षिप्] स्थापन
 करना, 'सुयस्स य भगवओ चैक नाम उकखि-
 विस्सामो' (स १६२) ।
 उकखिप सक [उत् + क्षिप्] १ फेंकना ।
 २ ऊँचा फेंकना । ३ उढाना । ४ बाहर
 करना । ५ काटना । ६ उढाना । उकखिवैइ
 (सूक्त ५६) । वक 'पाएवि उकखिपती न
 लज्जति णट्ठिया सुणेवत्था' (वह ३) । सक
 उकखिविउ, उकखिपप (पि ५७५, आचा
 २, २, ३) । कवक उकखिपपत, उकखि-
 पपमाण (से ६, ३५, परह १, ४),
 उक्खिपपत (से २, १३) ।

उकखिपण न [उत्क्षेपण] १ फेंकना, दूर
 करना । २ वि. दूर करनेवाला (कुमा) ।
 उकखिपणा स्त्री [उत्क्षेपणा] बाहर करना,
 दूर करना (वह १) ।
 उकखिविय देखो उकखित्त (सुर २, १८०) ।
 उकखुंड पु [दे] १ उल्लुक्, अलात, मशाल ।
 २ समूह । ३ वज्र का एक अग्र, श्रवल (दे
 १, १२९) ।
 उकखुड सक [तुड्] तोडना, टुकड़ा करना ।
 उकखुडइ (हे ४, ११६) ।
 उकखुडिअ वि [तुडित] १ खरिडत, छिन्न,
 निन्न (कुमा, से ४, २१, सुपा २६२) । २
 व्यय किया हुआ, खर्च किया हुआ,
 'एत्तियकाला इरिह, उकखुडिय
 सालिमाइय नाउ ।
 तुह जोगग तो सहसा,
 पुणो पुणो कृट्टिय हियय'
 (सुपा १५) ।
 उकखुत्त वि [दे उत्कृत्त] काटा हुआ,
 'रणु दुरदुक्खुत्तिसवलिय तिलच्छेत्त' (गा
 ७६६) ।
 उकखुत्तम अक [उत् + क्षुम्] क्षुब्ध होना ।
 उकखुत्तमइ (प्राक ७५) ।
 उकखुरुच्चिअ वि [दे] उल्लिप्त, फेंका हुआ
 (दे १, ४) ।
 उकखुत्तप सक [दे] खुजवाना । सक उकखु-
 लपिय (आचा २, १, ६, २) ।
 उकखुहिअ वि [उत्क्षुब्ध] क्षुब्ध, क्षोभ प्राप्त
 (से ७, १६) ।
 उकखेव पु [उत्क्षेप] १ उत्पाटन, उन्मूलन
 (श्रौप) । २ ऊँचा करना (गडड) । ३ जो
 उढाया जाय वह, 'उकखेवे निकखेवे महल्ल-
 भाणम्मि' (पिंड ५७०) ।
 उकखेव पुं [उत्क्षेप] उपोद्घात, भूमिका
 (उवा, विपा १, २, ३, ४) ।
 उकखेवग वि [उत्क्षेपक] १ ऊँचा फेंकने-
 वाला । २ पुं एक जाति का पखा, व्यजन-
 विशेष (परह २, ५) ।
 उकखेवण न [उत्क्षेपण] १ फेंकना (पउम
 ३७, ५०) । २ उन्मूलन, उत्पाटन (सूअ
 २, १) ।

‘आसुरीय दिस वाला गच्छति भ्रवसातम’ (उत् ७, १०)।

आसुरक्त वि [आशुरक्त] १ शीघ्र क्रुद्ध । २ अति कुपित (खाया १, १)।

आसुरक्त वि [आसुरोक्त] अति कुपित (खाया १, १)।

आसुरक्त वि [आशुरक्त] अति-कुपित (विपा १, ६)।

आसृणि न [आशृनिन्] १ बलिष्ठ बनाने-वाली सुराक । २ रसायन-क्रिया (सूत्र १, ६)।

आसृणी स्त्री [आशृनी] श्लाघा, प्रशंसा (सूत्र १, ६, १५)।

आसृणिय वि [आशृणित] थोडा स्थूल किया हुआ (परह १, ३)।

आसूय न [दे] औपयाचितक, मनौती (पिंड ४०५)।

आसेअणय वि [आसेचनक] जिसको देखने से मन को वृत्ति न होती हो वह (दे १, ७२)।

आसेव सक [आ + सेव्] १ सेवना । २ पालना । ३ आचरना । आसेवए (आप ६७)।

आसेवणन [आसेवन] १ परिपालन, सरक्षण (सुपा ४३८) । २ आचरण (स २७१) । ३ मैथुन, रतिभोग (दसत्तू १, पव १७०)।

आसेवणया स्त्री [आसेवना] १ परिपालन आसेवणा स्त्री (सूत्र १, १४) । २ विपरीत आचरण (पव) । ३ अग्र्यास (आहू) । ४ शिक्षा का एक भेद (धर्म ३)।

आसेवा स्त्री [आसेवा] ऊपर देखो (सुपा १०)।

आसेविय वि [आसेवित] १ परिपालित । २ अग्र्यमन (आचा) । ३ आचरित, अनुष्ठित (न ११८)।

आसोअ पु [अश्वयुक्] आश्विन मास (रयण ३६)।

आसोअ वि [आशोक] अशोक वृक्ष सबन्धी (गड्ड)।

आसोइया स्त्री [दे आसोत्तिका] औपधि-नितेय, ‘आनोइयाइमीस चोल पुसिए कुमुमस-मोस’ (सुपा ३६७)।

आमोई स्त्री [आश्वयुजी] आश्विन पूर्णिमा (र)।

आसोई स्त्री [आश्वयुजी] १ आश्विन आसोया } मास की पूर्णिमा । २ आश्विन

मास की अमावस (सुज १०, ७, ६)।

आसोकंता स्त्री [आशोकान्ता] मध्यम आम की एक मूच्छंता (ठा ७)।

आसोत्थ पु [अश्वयु] पीपल का पेठ (परण १, उप २३६)।

आह सक [ब्रून्] कहना । भूका—आहसु, आहु (कप्प)।

आह सक [कड च्] चाहना, इच्छा करना । आहइ (हे ४, १६२, षड्) । वक्त आहत् (कुमा)।

आहडल देखो आखडल (हम्मीर १५)।

आहतु देखो आहण ।

आहव अ [दे] १ अन्यथा । २ निष्कारण (वव १) । भाव पु [भाव] कादाचित्कता (पव १०७ टी)।

आहव न [दे] १ अत्यर्थ, बहुत, अतिशय (दे १, ६२) । २ अ शीघ्र, जल्दी (आचा) । ३ कदाचित्, कभी (भग ६, १०) । ४ उप-स्थित होकर (आचा) । ५ व्यवस्था कर (सूत्र २, १) । ६ विभक्त कर (आचा) । ७ छीन कर (दसा)।

आहवा स्त्री [आहत्या] प्रहार, आघात (भग १५)।

आहट्ट न [दे] देखो आहट्टु = दे (पव ७३ टी)।

आहट्टु स्त्री [दे] प्रहेलिका, पहेलियाँ, कुफौ वल, तिसु न विम्हयद सय आहट्टुकुहेडएहि व’ (पव ७३)।

आहट्टु देखो आहर = आ + ह ।

आहड [आहत्] १ छीन लिया हुआ । २ चोरी किया हुआ (सुपा ६४३) । ३ सामने लाया हुआ, उपस्थापित (स १८८)।

आहड न [दे] सीत्कार, सुरत शब्द (पड्)।

आहण सक [आ + हन्] आघात करना, मारना । आहणामि (पि ४६६) । सक आहणिअ, आहणिऊण, आहणित्ता (पि ५६१, ५८५, ५८२) । हेक्क आहतुं (पि ५७६)।

आहण सक [आ + हन्] उठाना । सक आहु [ह] गिय (राय १८, २१)।

आहणण न [आहनन] आघात (उप ३६६)।

आहणाविय वि [आघातित] आहत कराना हुआ (स ५२७)।

आहत्तहीय न [याथातथ्य] १ यथाविर-पन, वास्तविकता । २ तथ्य-मार्ग—सम्यग्गान आदि । ३ ‘सूत्रकृताङ्ग’ सूत्र का तै-अग्रघयन (सूत्र १, १३, पि ३३५)।

आहम्म सक [आ + हम्म] आना, आ- करना । आहम्मइ (हे ४, १६२)।

आहम्मिअ वि [अवार्मिक] अवर्म-स- (दस ८, ३१)।

आहम्मिय वि [अधार्मिक] अवर्मा, तापी (सम ५१)।

आहय वि [आहत] आघात प्राप्त, प्रेरित (कप्प)।

आहय वि [आहृत] १ आकृष्ट, खींचा हुआ । २ छीना हुआ (उप २११ टी)।

आहर सक [आ + ह्] १ छीनना, खींच लेना । २ चोरी करना । ३ खाना, भोजन करना । आहरइ (पि १७३) । कवक्क आहरिउज्जमाग (ठा ३) । सक आहट्टु (पि २८६) । हेक्क आहरित्तए (तडु)।

आहर सक [आ + ह्] खाना । आहारि (सूत्र १, ४, २, ४), आहरेमो (सूत्र २, ५५)।

आहरण पुन [आहरण] १ उदाहरण, दृष्टान्त (ओघ ५३६, उप २६३, ६५१) । २ आचरण, बुलाना (सुपा ३१७) । ३ ग्रहण, स्वीकार । ४ व्यवस्थापन (आचा) । ५ आनयन, लाना (सूत्र २, २)।

आहरण पुन [आभरण] भूषण, अलंकार, ‘देहे आहरणा बहू’ (आ १२, कप्पु)।

आहरणा स्त्री [दे] खरटि, नाक का अक्षर शब्द (ओघ २)।

आहरिसिय वि [आधर्षित] तिरस्कृत, भ्रंशित, ‘आहरिसियो हूओ सभतेण नियन्तिओ’ (आवम)।

आहल्ल (अप) अक [आ + चल्] हिनाना, चलना, ‘नवमइ दतपतो आहल्लइ, वलइ जीहा’ (भवि)।

आहल्ला स्त्री [आहत्या] विद्याधर-राज की एक कन्या (पठम १३, ३५)।

आहव सक [आ + ह्वे] बुलाना । आहवमु

उग्गाल पुं [उद्गार] विनिर्गम, बाहर निकलना (वव १) ।

उग्गाह सक [उद् + ग्रह्] ग्रहण करना, 'भायणवत्याइ पमजइ, पमजइत्ता भायणाइ उग्गाहेइ' (उवा) । सक उग्गाहेत्ता जेएव समण भगवं महावीरे तेएव उवागच्छइ' (उवा) ।

उग्गाह सक [अय + गाह्] श्रवणाहन करना, 'उग्गाहेति नाणाविहाओ त्रिगिच्छा-सहियाओ' (स १७) ।

उग्गाह सक [उद् + ग्राह्य] १ तगादा करना । २ ऊँचे से चलना । उग्गाहइ (प्राक् ७२) ।

उग्गाह पु देखो उग्गाहा (पिंग) ।

उग्गाहण न [उद्ग्राहण] तगादा, दी हुई चीज की माँग (सुपा ५७८) ।

उग्गाहणिया स्त्री [उद्ग्राहणिका] ऊपर देखो 'उज्जाणपालयाण पासम्मि गओ तथा सेति । उग्गाहणियाहेउ' (सुपा ६३२) ।

उग्गाहणी स्त्री [उद्ग्राहणी] ऊपर देखो (द्र ६) ।

उग्गाहा स्त्री [उद्गाथा] छन्द-विशेष (पिंग) । उग्गाहिअ वि [दे उद्ग्राहित] १ गृहीत, लिया-हुआ । २ उत्क्षिप्त, फेंका हुआ । ३ प्रवर्तित (दे १, १३७) । ४ उच्चालित, ऊँचे से चलाया हुआ (पात्र, स २१३) ।

उग्गाहिम वि [अवगाहिम] तली हुई वस्तु । (परह २, ५) ।

उग्गिण्ण } वि [उद्गीर्ण] १ उक्त, कथित
उग्गिअ } (अवि) । २ वान्त, उद्गीर्ण
(राजा १, १) । ३ उठाना हुआ, ऊपर किया हुआ-

'उग्गिण्णखगमवल श्रवलोइय
नरवईवि विम्हइओ ।

चित्तेइ अहो धट्टा, मज्जु वहुट्टा
इह पविट्टा' (सुर १६, १४७) ।

'निइय । नियविणीवह-
कलकमलियाण्व रे तुमं जाओ ।

उग्गिण्णखगपसरतकतिसा-
मंलियसव्वगो' (सुपा ५३८) ।

उग्गिर देखो उग्गिगल । उग्गिरेइ (मुद्रा १२१) ।
वक्क उग्गिरत (काल) ।

उग्गिरण न [उद्गरण] १ वान्ति, वमन, कय । २ उक्ति, कथन-

'माणसियावि श्रवमाणवचणा
ते परस्स न करंति ।

सुहदुक्खुग्गिरणय, साहू
उयहिण्व गभीरा' (उव) ।

उग्गिगल सक [उद् + ग] १ कहना, बोलना । २ डकार करना । ३ उलटी करना, वमन करना । ४ उठाना । वक्क 'अग्गिगालुग्गिगलत वयण' (शाया १, ८) । सक उग्गिगलित्ता (कस), उग्गिलोत्ता (निचू १०) ।

उग्गिगल्लिअ देखो उग्गिण्ण (पात्र) ।

उग्गीय वि [उद्गीत] १ उच्च स्वर से गाया हुआ (दे १, १६३) । २ न सगीत गीत, गान (से १, ६५) ।

उग्गीयमाण देखो उग्गा ।

उग्गीर देखो उग्गिर । वक्क 'खग्ग उग्गीरंतो इरियवहथ, हयासलोयाण' (सुपा १५८) ।

उग्गीरिअ देखो उग्गिण्ण, 'उग्गीरिओ ममो-
वरि, जमजीहादीहतरलकरवालो' (सुपा १५८) ।

उग्गीव वि [उद्गीव] उत्कण्ठित, उत्सुक (कुमा) । १ कय वि [कृत] उत्कण्ठित किया हुआ (उप १०३१ टी) ।

उग्गुल्लिआ स्त्री [दे] हृदय-रस का उछलना, भावोद्रेक (दे १, ११८) ।

उग्गोव सक [उद् + गोपय] १ खोजना । २ प्रकट करना । ३ विमुग्ध करना । वक्क 'इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एय मह किएहसुत्तग वा जाव सुक्किल्लसुत्तग वा पासमाणे पासति उग्गोवेमाणे उग्गोवेइ' (भग १६, ६) ।

उग्गोवणा स्त्री [उद्गोपना] १ खोज, गवेवणा,

'एसण गवेसणा लग्गणा
य उग्गोवणा य बोद्धव्वा ।

एण उ एसणएण नामा
एणट्ठिया होति' (पिड ७३) ।

२ देखो उग्गम, 'उग्गम उग्गोवण मग्गणा
य एणट्ठियाणि एयाणि' (पिड ८५) ।

उग्गोविय वि [उद्गोपित] विमोहित, भ्रान्त, 'उग्गोवियमिति अण्पाए मन्तति' (भग १६, ६) ।

उग्घ देखो उव । उग्घइ (धट्) ।

उग्घट्टि स्त्री [दे] श्रवतस, शिरो-भूषण (दे उग्घट्टी १, ९०) ।

उग्घह सक [उद् + घाटय] खोलना (प्रामा) ।

उग्घह अक [उद् + घट्ट] खुलना । उग्घहइ (सिरि ५०४) । उग्घहति (धर्म वि ७६) ।

उग्घडिअ वि [उद्घाटित] खुला हुआ (धर्म वि ७७) ।

उग्घडिअ वि उद्घाटित खुला हुआ । २ छिन्न, नष्ट किया हुआ (सि ११, १३०) ।

उग्घर वि [उद्गृह] गृह-स्थापी, जिसने घरवार छोड़ कर सन्यास लिया हो वह, साधु-

'चदोव्व कालपक्खे परिह्माईपए पए पमायपरो ।
तह उग्घरविग्घरंनरगणो वि नय इच्छिय सहइ'
(शाया १, १० टी) ।

उग्घव देखो अग्घव । उग्घवइ (हे ४, १६९ टि, राज) ।

उग्घसियन [अवघर्षित] धर्षण (राय ६७) ।
उग्घाअ पु [दे] १ समूह, सघात (दे १, १२६, स ७७, ४३६, गउड, से ५, ३४) । २ स्वपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) ।

उग्घाअ पु [उद्घात] १ आरम्भ, प्रारम्भ, 'उग्घाओ आरओ' (पात्र) । २ प्रतिघात ठोकर लगना । ३ लघुकरण, भाग-पात (ठा ३) । ४ उपोद्घात, भूमिका (विसे १३४८) । ५ ह्रास (ठा ५, २) । ६ न प्रायश्चित्त-विशेष । ७ निशीय सूत्र का एक अंश, जिसमें उक्त प्रायश्चित्त का वर्णन है, 'उग्घायमणुग्घाय आरोवण तिविहो नीसीह तु' (आव ३) ।

उग्घाअ सक [उद् + घातय] विनाश करना । उग्घाएइ (उत्त २६, ६) ।

उग्घाअमि वि [उद्घातित] १ लघु, छोटा । २ न लघु प्रायश्चित्त (ठा ३) ।

उग्घाइय वि [उद्घातित] १ विनाशित (ठा १०) । २ न लघु प्रायश्चित्त (ठा ५) ।

उग्घाइय वि [उद्घातित] लघु प्रायश्चित्त वाला (वव १) ।

उग्घाइय न [उद्घातिक] लघु प्रायश्चित्त (कस) ।

निर्मित (पात्र) । 'गिग पुं [गिग] अग्नि-
होनीय ब्राह्मण (पद्यम ३५, ५) ।

आहिय वि [आहित] १ व्याप्त, 'अचिरेणा-
हिमो एस जलोयरवाहिरा' (कुप्र ४३) । २
जनित, उत्पादित । ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्राप्त
(सूत्र १, २, २, २६) । ४ सर्वथा हितकारी
(सूत्र १, २, २, २७) ।

आहिय वि [आख्यात] कहा हुआ, प्रति
पादित, उक्त (परण ३३, सुज १६) ।

आहियार पु [अधिकार] अधिकार, सत्ता,
हक (पद्यम ५५, ८) ।

आहियत्त वेको आहियत्त (काल) ।

आहिसारिअ वि [अभिसारित] नायक-बुद्धि
से गृहीत, पति बुद्धि से स्वीकृत (से १३, १७) ।

आहीर पु [आहीर] १ देश विशेष (कम्प) ।
२ शूद्र जाति विशेष, अहीर (सूत्र १, १) ।

३ इस नाम का एक राजा (पद्यम ६८, ६४) ।
जो 'री-अहीरि (सुपा ३६०) ।

आहु सक [आ + हुवे] बुलाना । कृ आहु-
णिज्ज (श्रीप) ।

आहु [आ + हु] दान करना, त्याग करना ।
कृ आहुणिज्ज (राया १, १) ।

आहु अ [आहु] अथवा, या (नाट) ।

आहु पुं [दे] धुक, उल्लू (दे १, ६१) ।

आहु देको आहु = दूअ ।

आहु वि [आहोच] वाता, त्यागी (राया
१, १) ।

आहुइ ली [आहुति] १ हवन, होम (गउड) ।
२ होम का पदार्थ, बलि (स १७) ।

आहुदुर } पु [दे] बालक, बच्चा (दे १,
आहुदुर } ६६) ।

आहुड न [दे] १ सींकार, सुरत समय का
शब्द । २ परिणत, विक्रय, बेचना (दे १, ७४) ।

आहुड अक [दे] गिरना । आहुडइ (दे १,
६६) ।

आहुडिअ वि [दे] निपतित, गिरा हुआ (दे
१, ६६) ।

आहुण सक [आ + धु] कंषाना, हिलाना ।
कवक आहुणिज्जमाण (राया १, ६) ।

आहुणिय वि [आधुनिक] १ आजकल का,
नवीन । २ पु ग्रह-विशेष (ठा २, ३) ।

आहुत्त न [दे अभिमुख] सम्मुख, सामने,
'कुमरोवि पहाविमो तयाहुत्त' (महा, भवि) ।

आहुअ वि [आहूत] बुलाया हुआ (पात्र) ।
आहुअ पु [आहूक] पिशाच-विशेष (इक) ।

आहुअ वि [आभूत] उत्पन्न, जात, 'आहुओ
से गम्भो' (वसु) ।

आहुई देको आहा = आ + घा ।

आहुड पुन [आखेट, क] शिकार,
आहुडग मृगया (सुपा १६७, स ६७,
आहुडय दे) ।

आहुडिय वि [आखेटिक] मृगया-सम्बन्धी,
'आहुडियभसणेण' (सम्मत २२६) ।

आहुण न [दे] निवाह के नाद वर के घर

वधू के प्रवेश होने पर जो जिमाने का उत्सव
किया जाता है वह (आचा २, १, ४) ।

आह्येय वि [आधेय] १ स्थाप्य । २ आश्रित
(विसे ६२४) ।

आह्येय देको आहीर (विसे १४५४) ।

आह्येवच्च न [आधिपत्य] नेतृत्व, मुखिय, मन
(सम ८६) ।

आह्येवण न [आक्षेपण] १ आक्षेप । २ जन्म
उत्पन्न करना (परह १, २) ।

आह्येय देको आभोग (से १, ४६, ६, ३
गा ८८, गउड) ।

आह्येय देको आभोय = आ + भोय्य ।
सक आह्येयुण (स ५५) ।

आह्येय वि [आभोगित] ज्ञात, दृष्ट (स
४८५) ।

आह्येय वि [आभोगिक] उपयोग हो
जिसका प्रयोजन हो वह, उपयोग-प्रदान
(कम्प) ।

आह्येय सक [ताडय] ताडन करना, पिटना
आह्येयइ (हे ४, २७) ।

आह्येयण [आधोरण] हस्तिपक, महावन
(पात्र, स ३६६) ।

आह्येयि वि [आधोवधिक] अर्थात्-
आह्येयि } ज्ञानी का एक भेद, नियत
नो अविज्ञान से देखनेवाला (भग, सम,
६६) ।

इअ पाइअसदमहणवो आयाराइसदसकलणो
विइओ तरगो समत्तो ।



इ पु [इ] १ प्राकृत वर्णमाला का तृतीय स्वर-
चर (आमा) । २-३ वाक्यालङ्कार और पाद-
पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (कम्प, हे
२, ११७, पद्) ।

इ देको इइ (उवा) ।

इ सक [इ] १ जाना, गमन करना । २
जानना । इइ, एंति (कुमा) । वकृ. एंति
(कुमा) । सक इच्चा (आचा) । हेकृ. इत्तए,
एत्तए (कम्प, कस) ।

इअहरा देको इयरहा (प्राकृ ३७) ।

इइ अ [इति] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ समाप्ति (आचा) । २ अवधि, हद (विसे) ।
३ मान, परिमाण (पव ८४) । ४ निश्चय (निचू
२, १५) । ५ हेतु, कारण (ठा ३) । ६ एवम्,
इस तरह, इस प्रकार (उत्त २२) । देको इति ।

उज्जाणी स्त्री [औद्यानी] गोष्ठी, गोठ (सुपा ४८५) ।

उज्जायण न [उद्यायन] गोत्र-विशेष (सुज्ज १०, १ टी) ।

उज्जाल सक [उत् + ज्वाल्य] उज्ज्वल करना, विशेष निर्मल करना । सक्र. उज्जालिय (श्रावक ३७६) ।

उज्जाल सक [उद् + ज्वाल्य] ? उजाला करना । २ जलाना । सक्र उज्जालिय, उज्जालित्ता (दस ५, आचा) ।

उज्जालण न [उज्जालन] जलाना (दस ५) ।

उज्जालण न [उज्जालन] उज्ज्वल करना (सिरि ६८०) ।

उज्जाल्य वि [उज्जालक] आग सुलगाने-वाला (सूत्र १, ७, ५) ।

उज्जालिअ वि [उज्जालित] जलाया हुआ, सुलगया हुआ (सुर ६, ११७) ।

उज्जावण न [उद्यापन] व्रत का समाप्ति-कार्य (प्राह) ।

उज्जाविय वि [दे] विकसित (सण) ।

उज्जित देखो उज्जटत (णया १, १६),

‘उज्जितसेलसिहरे, दिक्खा
नाए निसीहिआ जस्स ।

त धम्मचक्रवर्द्ध,
अरिदुनेमि नमसामि’ (पडि) ।

उज्जीरिअ वि [दे] निर्मित्त, अपमानित, तिरस्कृत (दे १, ११२) ।

उज्जीवण न [उज्जीवन] ? पुनर्जीवन, जिलाना, ‘तस्सपभावो एसो कुमरस्सुज्जीवणे जाओ’ (सुपा ५०४) । २ उद्दीपन (सण) ।

उज्जीविय वि [उज्जीवित] पुनर्जीवित, जिलाया हुआ (सुपा २७०) ।

उज्जु वि [उज्जु] मत्ता, निष्कपट, सीधा (श्रौप, आचा) । कट वि [उज्जु] ? निष्कपट तवस्वी (आचा, उत) । कट्ट वि [उज्जु] माया-रहित आचरणवाला (आचा) । जड्, जड्ड वि [जड] सरल किन्तु मूर्ख, तात्पर्य को नहीं समझनेवाला (पंचा १६, उत २६) । भइ स्त्री [मति] ? मत पर्यंत ज्ञान का एक भेद, सामान्य मनोज्ञान, सामान्य रीति से दूसरो के मनोभाव

को जानना । २ वि उक्त मनो-ज्ञानवाला (पएह २, १, श्रौप) । °वालिआ स्त्री [°वालिआ] नदी-विशेष, जिसके किनारे भगवान् महावीर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ था (कप्प, स ४३२) । °सुत्त पु [°सुत्त] वर्तमान वस्तु को ही माननेवाला नय-विशेष (ठा ७) । °सुय पुं [°श्रुत] देखो पूर्वोक्त श्रव्य, ‘पच्चुप्पन्नगाही उज्जुसुओ रायविही मुणेअव्वो’ (अणु) । °हस्थ पु [°हस्त] दाहिना हाथ (श्रौष ५११) ।

उज्जु पु [उज्जु] समय (सूत्र १, १३, ७) । उज्जुअ वि [उज्जुक] ऊपर देखो (प्राचा, कुमा, गा १५६, ३५२) ।

उज्जुआइअ वि [उज्जुकारित] सरल किया हुआ (से १३, २०) ।

उज्जुग देखो उज्जुअ (पि ५७) ।

उज्जुत्त वि [उज्जुत्त] उद्यमी, प्रयत्नशील (सुर ४, १५, पात्र) ।

उज्जुरिअ वि [दे] ? क्षीण, नट । २ शुष्क, सूखा (दे १, ११२) ।

उज्जूढ वि [उज्जूढ] धारण किया हुआ (सबोध ५३) ।

उज्जेणग पु [उज्जयनक] श्रावक-विशेष, एक उपासक का नाम (आचू ४) ।

उज्जेणी देखो उज्जणी (महा, काप्र ३३३) । उज्जोअ सक [उद् + द्योतय] प्रकाश करना, उद्योत करना । उज्जोएइ (महा) । वक्क उज्जोयत, उज्जोइत, उज्जोयमाण, उज्जोएमाण (णया १, १, सुपा ४७, सुर ८, ८७, सुपा २४२, जीव ३) ।

उज्जोअ पु [उद्योग] प्रयत्न, उद्यम (पउम ३, १२६, सूक्त ३६ पुष्क २८, २६) ।

उज्जोअ पु [उद्द्योत] ? प्रकाश, उज्जला । °गर वि [°कर] प्रकाशक, ‘लोगस्स उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे’ (पडि, पात्र, हे १, १७७) । २ उद्द्योत का कारण-भूत कर्म-विशेष (सम ६७, कम्म १) । °त्थ न [°त्थ] शस्त्र-विशेष (पउम १२, १२८) ।

उज्जोअग वि [उद्द्योतक] प्रकाशक, ‘सव्व जणुज्जयोगस्स’ (एदि) ।

उज्जोअण न [उद्द्योतन] ? प्रकाशन, प्रव-भासन । २ वि प्रकाश करनेवाला (उप

७२८ टी) । ३ पु. सूर्य, रवि । ४ एक प्रतिद जैनाचार्य (पु ७, सार्ध ६२) ।

उज्जोअय वि [उद्द्योतक] ? प्रकाशक । २ प्रभावक, उन्नति करनेवाला (उर ८, १२) ।

उज्जोइत देखो उज्जोअ = उद् + द्योतय ।

उज्जोइय वि [उद्द्योतित] प्रकाशित (सम १५३, सुपा २०५) ।

उज्जोएमाण देखो उज्जोअ = उद् + द्योतय ।

उज्जोमिआ स्त्री [दे] रश्मि, रस्सी (दे १, ११५) ।

उज्जोव देखो उज्जोअ = उद् + द्योतय । वक्क-उज्जोवत, उज्जोवयत, उज्जोवेंत, उज्जोवेमाण (पउम २१, १५, स २०७, ६३१, ठा ८) ।

उज्जोवण न [उद्द्योतन] प्रकाशन (स ६३१) ।

उज्जोविय देखो उज्जोइय (कप्प, णया १, १, पएह १, ४, पउम, १६०, स ३६) ।

उज्जम सक [उज्जम्] त्याग करना, छोड़ देना । उज्जमह (महा) । कवक्क उज्जिमज्जमाण (उप २११ टी) । सक उज्जिमअ, उज्जिमह, उज्जिमज्जण (अभि ६०, पि ५७६, राज) । हेक्क उज्जिमत्तए (णया १, ८) । क्क उज्जिमयव्व (उप ५६७ टी) ।

उज्जम पु [उज्जम, उद्ध्य] उपाध्याय, पाठक (विसे ३१६८) ।

उज्जमअ } वि [उज्जमक] त्याग करनेवाला,
उज्जमा } छोड़नेवाला (सूत्र १, ३, उप १७६ टी) ।

उज्जमण न [उज्जमण] परित्याग (उप १७६-पु ४०३, पउम १, ६०, श्रौप) ।

उज्जमणया } स्त्री [उज्जमणा] परित्याग (उप
उज्जमणा } ५६३, श्राव ४) ।

उज्जमणिअ वि [दे] विकीत, बेचा हुआ । २ निम्नीकृत, नीचा किया हुआ (पड) ।

उज्जमण न [दे] पलायन, भागना (दे १, १०३) ।

उज्जमाण वि [दे] पलायित, भागा हुआ (पड) ।

उज्जमर पु [निर्मर] पर्वत से गिरनेवाला जल-प्रवाह, पहाड़ का भरना (णया १, १, गउड, गा ६३६) । °वण्णी स्त्री [°पर्णा] उदक-पात, जल-प्रपात (विचू ५) ।

विशेष । ४ न. विमान विशेष (इक) ।
 ल देखो जाल (महा) । °रह पु [°रथ] ।
 शर वश के एक राजा का नाम (पउम
 ५) । °राय पु [°राज] इन्द्र (तिल्य) ।
 उट्टु ली [°यष्टि] इन्द्र-ध्वज (राया १,
 १) । °लोहा ली [°लोहा] राजा त्रिकसयत
 नो पत्नी (पउम ५, ५१) । °वज्रा स्त्री
 [°वज्रा] छन्द विशेष का नाम, जिसके एक
 पाद में ग्याह् अक्षर होते हैं (पिंग) । °वसु
 ली [°वसु] ब्रह्मराज की एक पत्नी (राज) ।
 वाय पु [°वात] एक मारुडलिक राजा
 (भक्ति) । °वारण पु [°वारण] इन्द्र का
 हाथी, ऐरावत (कुमा) । °सम्म पु [°शर्मन्]
 स्नाम-स्थल एक ब्राह्मण (आवम) । °साम-
 णिय पु [°सामानिक] इन्द्र के समान ऋद्धि-
 वाला देव (महा) । °सिरी ली [°श्री] राजा
 क्युत्त की एक पत्नी (राज) । °सुअ पु
 [°सुअ] इन्द्र का लडका, जयन्त (दे ६, १६) ।
 °सेना ली [°सेना] ? इन्द्र का सैन्य । २
 एक महावीर (ठा ५, ३) । °हणु देखो °यणु
 (हे १, १८७) । °उह न [°युध] इन्द्रधनु
 (राया १, १) । °उहपुपभ पु [°युधप्रभ]
 बानरूप का एक राजा (पउम ६, ६६) ।
 °मय पु [°मय] राजा इन्द्रायुधप्रभ का
 पुत्र, बानरूप का एक राजा (पउम ६, ६७) ।
 इन्द्र [°इन्द्र] एक देवविमान (देवेन्द्र १४१) ।
 °वि [°विन्द्र] ? इन्द्र-सवन्वी (राया १,
 १) । २ न सङ्कत का एक प्राचीन व्याकरण
 (आवम) ।
 इन्द्राह पु [°दे] साथ में सलग्न रहनेवाले
 नर विशेष (दे १, ८१) ।
 °रिगि पु [°दे] बर्फ, हिम (दे १, ८०) ।
 °रिगिभूम न [°दे] बर्फ, हिम (दे १, ८०) ।
 °रुद्राह पु [°दे] इन्द्र का उल्थापन (दे १,
 ८०) ।
 °रुद्राह वि [°दे] ? कुमारी में उल्पन्न । २ न
 °रुद्राह, यौवन (दे १, ८१) ।
 °रुद्राहसुअ पु [°दे] इन्द्रमहासुअक
 राजा, शान (दे १, ८२, पाय) ।
 °रुद्राह ली [°रुद्राह] ? एक महागदी (ठा ५, ३) ।
 °रुद्राह की एक अग्र-महिषी (राया २) ।
 °रुद्राह [°रुद्राह] पूर्व-दिशा (ठा १०) ।

इदाणी ली [°इन्द्राणी] ? इन्द्र की पत्नी (सुर
 १, १७०) । २ एक राज-पत्नी (पउम ६,
 २१६) ।
 इदासणि पु [°इन्द्राशनि] एक नरक-स्थान
 (देवेन्द्र २६) ।
 इदिदिर पु [°इन्द्रिन्दिर] भ्रमर, भमरा, भौरा
 (पात्र, दे १, ७६) ।
 इदिय पुन [°इन्द्रिय] ? आत्मा का चिह्न, ज्ञान
 के साधन-भूत इन्द्रिय—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण,
 जिह्वा, त्वक् श्रौर मन, 'त तारिस नो पयलेति
 इदिया' (दसत्रू १, १९; ठा ६) । २ अग,
 शरीर के अवयव, 'नो निग्गये इत्योए इदियाइ
 मणोहराइ मणोरमाइ आलोइत्ता निग्गाइत्ता
 भवइ' (उत्त १६) । °अवाय पु [°पाय] इन्द्रियो
 द्वारा होनेवाला वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष
 (परएण १५) । °ओगाहणा ली [°वग्रहणा]
 इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष
 (परएण १५) । °जय पुं [°जय] ? इन्द्रियो
 का निग्रह, इन्द्रियो को वश में रखना, 'अजि-
 इदिएहि चरण, कठु व घुणेहि कीरइ असार ।
 तो घम्मत्थीहि दड्ड, जइअव्व इदियजयम्मि'
 (इदि ४) । २ तपो-विशेष (पव २७०) । °ट्टाण
 न [°स्थान] इन्द्रियो का उपादान कारण,
 जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का आकाश, चक्षु का तेज बगैरह
 (सुअ १, १) । °पिण्वत्तणा ली [°निर्वत्तणा]
 इन्द्रियो के आकार की निष्पत्ति (परएण १५) ।
 °गाण न [°ज्ञान] इन्द्रिय-द्वारा उत्पन्न ज्ञान,
 प्रत्यक्ष ज्ञान (वव १०) । °थ पु [°र्थ]
 इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, रूप-रस-गन्ध
 बगैरह (ठा ६) । °पज्जत्ति ली [°पर्याप्ति]
 शक्ति-विशेष, जिसके द्वारा जीव घातुश्री के
 रूप में बदले दृष्टे आहार को इन्द्रियो के रूप में
 परिणत करता है (परएण १) । °विजय पु
 [°विजय] देखो °जय (पचा १८) । °विसय
 पु [°विषय] देखो °थ (उत्त ५) ।
 इदिय न [°इन्द्रिय] लिंग, पुष्प-चिह्न (धर्मस
 ६८१) ।
 इदियाल देखो इद-जाल (सुपा ११७, महा) ।
 इदियाल } देखो इद-जालि, 'बुह कोउयत्थ-
 इदियाल } मित्थ विहिय मे खयरइदियालेण'
 (सुपा २४२), 'बह एस इदियाली, दसइ
 खणत्तराइ ख्वाइ' (सुपा २४३) ।

इदियालीअ देखो इद-जालिअ; 'न भवामि
 अहं खयरो नरपुगव । इदियालीओ' (सुपा
 २४३) ।
 इदिर पु [°इन्द्रि] भ्रमर, भमरा, भौरा-
 'भकारसुहरिदिराइ' (विरू २६) ।
 इदिरा ली [°इन्द्रा] लक्ष्मी (मम्मत्त २२६) ।
 इदीवर न [°इन्दीवर] कमल, पद्म (पउम १०,
 ३६) ।
 इट्टु पु [°इन्दु] चन्द्र, चन्द्रमा (पात्र) ।
 इट्टुत्तरवडिसग न [°इन्द्रोत्तरावत्तसक] देव-
 विमान-विशेष (सम ३७) ।
 इट्टुर पुली [°उन्दुर] चूहा, मूषक (नाट) ।
 इदीकन न [°इन्दुमन्त] विमान-विशेष (सम
 ३७) ।
 इदोव देखो इद-गोव (पात्र, दे १, ७६) ।
 इदोवत्त पु [°दे] इन्द्रगोप, कीट-विशेष (दे १,
 ८१) ।
 इद देखो इद = इन्द्र (पि २६८) ।
 इध न [°चिह्न] निशानी, चिह्न (हे १, १७७-
 २, ५०, कुमा) ।
 इधण न [°इधन] ? इधन, जलावन, ल-
 वगैरह दाब-वस्तु (कुमा) । २ अन्न-विशेष
 (पउम ७१, ६४) । ३ उहीपन, उत्तेजन (उत्त
 १४) । ४ पत्ताल, पुआल, तृण बगैरह, 'जिसे
 फल पकाये जाते हैं (निचू १५) । °साळा ली
 [°शाल] वह घर, जिसमें जलावन न-
 जाते हैं (निचू १६) ।
 इधिय वि [°इन्धित] उहीपित, प्रज्वलित (वृह
 ४) ।
 इक न [°दे] प्रवेश, पैठ, 'इकमप्यए पणेण'
 (विसे ३४३) ।
 इक देखो एक (कुमा, सुपा ३७७, द ४०
 पात्र, प्रासू १०, कस, सुर १०, २१०, था
 १०, द २१, रयण २, था ६, पउम ?
 ३२) ।
 इकड पुं [°इकड] तृण-विशेष (परएण २, ३
 परएण १) ।
 इकड वि [°इकड] इकड तृण का बन्-
 (आचा २, २, ३, १४) ।
 इक्षण वि [°दे] चोर, चुरानेवाला (दे १, ८०) ।
 'बाहुलायामूलेसु रइयाओ जणमणोकयाआा उ ।
 बाहुतरियाउ तीसे' (स ७६) ।

१५५

दिया य राओ य, हुणामि महसपिस।
मे उओओ दड्ढो, जाय सरएओ भय'
(निचू ?)।

उडाहिअ वि [दे] उत्किसत, फेंका हुआ
(पड्)।

उडिथ वि [दे] अन्विष्ट, खोजा हुआ (पड्)।

उडिउ पुं [दे] उडिद, उरद, माष, धान्य-विशेष
(दे १, ६८)।

उड्ड पु [उड्ड] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३१)।

उड्डम पुंन [प्रभ] उड्ड नामक विमान के
उड्ड तरफ स्थित एक देव-विमान (देवेन्द्र
१३८)। उड्डम पुन [मध्य] उड्डविमान

के दक्षिण तरफ का एक देव विमान (देवेन्द्र
१३८)। उड्डम पुन [कावर्त] उड्डविमान

के पश्चिम तरफ का एक देव-विमान (देवेन्द्र
१३८)। उड्डम पुन [सुष्ट] उड्डविमान के

उत्तर तरफ का एक देव-विमान (देवेन्द्र
१३८)।

उड्ड न [उड्ड] १ नक्षत्र (पाम्)। २ विमान-
विशेष (सम ६६)। उड्ड, उड्ड पु [उड्ड] १

चन्द्र, चन्द्रमा (श्रीप, सुर १६, २४६)। २
जहाज, नौका (दे १, १२२)। ३ एक की

सख्या (सुर १६, २४६)। उड्ड पु [पति]
चन्द्र (सम ३०, परह १, ४)। उड्ड पु

[वर] सूर्य (राज)।

उड्ड देखो उड (ठा २, ४, श्लोक १२३ भा)।
उड्ड वरिजिया स्त्री [उड्डुम्बरीया] जैन मुनियो

की एक शाखा (कप्प)।

उड्डहिअ न [दे] १ विवाहिता स्त्री का कोप।
२ वि उच्छिष्ट, जूठा (दे १, १३७)।

उड्डखल } पुन [उड्डखल] उड्डखल, उड्डखल
उड्डखल } (पिठ ३६१, प्राकृ ७)।

उड्ड पु [उड्ड] १ देश-विशेष, उत्कल, श्रोड,
गोड नामो से प्रसिद्ध देश, जिसको आजकल

उडीसा कहते हैं (स २८६)। २ इस देश का
निवासी, उड्डिया, 'सगजवण-बब्बर-गाय मुस-

धेहु भडग—' (परह १, १)।

उड्ड वि [वे] कुंआ प्रादि को खोदनेवाला
नग (२)।

उड्डा न [दे] उत्किसत, फेंका हुआ (पड्)।
उड्डिअत देखो उड्डो = उड्ड + डी।
उड्डिआहरण न [दे] छुरी पर रखे हुए फूल
को पांव की दो उंगलियो से जेते हुए चल
जाना, 'छुरिआगणुकुपुफ धेतुअ पायपुलीहि
उप्ययण। त

उड्डुस देखो उड्डस (उत्त ३६, १३८)।
उड्डुस पु [दे] खटमल, खटकीरा, उड्डिस (दे
१, ६६)।

उड्डुहण पु [दे] चोर, डाकू (दे १, ६१)।

उड्डुअ पु [दे] उदगम, उदय, उड्डव (दे १,
६१)।

उड्डुण न [उड्डुयन] उड्डान, उड्डना, 'भोरोवि
अहव विपुह, हत तदजम्मि उड्डारो' (सुर ८,
५२)।

उड्डुण पु [दे] १ प्रतिशब्द, प्रतिव्वनि। २
कुरर, पक्षि-विशेष। ३ विष्ठा, पुरीप। ४

मनोरथ, अभिलाष। ५ वि गविष्ठ, अभिमानी
(दे १, १२८)।

उड्डुमार वि [उड्डुमार] उड्डरट, प्रबल (कुप्र
१४५)।

उड्डुमार वि [उड्डुमार] १ भय, भीति। २
आडम्बरवाला, टीपटापवाला (पाम्)।

उड्डुमारिअ वि [उड्डुमारित] भय-भीत किया
हुआ (कप्प)।

उड्डुव सक [उड्ड + डायय] उड्डाना।
उड्डुवइ (भवि)। वड्ड उड्डुवत (हे ४,
३५२)।

उड्डुव वि [उड्डुयक] उड्डानेवाला (पिठ ४७१)।
उड्डुवण न [उड्डुयन] १ उड्डाना, 'मत्तजल-

नाययुड्डुवणोण जलकलुसण किमिम' (कुमा)।
२ आकर्षण, 'हियउड्डुवणो' (गाया १, १४)।

उड्डुविस वि [उड्डुवित] उड्डाया हुआ (गा
११०, पिण)।

उड्डुविर वि [उड्डुविय] उड्डानेवाला (वजा
६४)।

उड्डुस पु [दे] सताप, परिताप (दे १, ६६)।
उड्डुह पु [उड्डाह] १ भयङ्कर वाह, जला

देना (उप २०८)। २ मालिन्य, निन्दा, उप-
धात (श्लोक २२१)।

उड्डुअ वि [ओड्ड] उडीसा देश का निवासी
(नाट)।

उड्डुअ वि [दे] उत्किसत, फेंका हुआ (पड्)।
उड्डुअत देखो उड्डो = उड्ड + डी।

उड्डुआहरण न [दे] छुरी पर रखे हुए फूल
को पांव की दो उंगलियो से जेते हुए चल

जाना, 'छुरिआगणुकुपुफ धेतुअ पायपुलीहि
उप्ययण। त

उड्डुअत देखो उड्डो = उड्ड + डी।
उड्डुआहरण न [दे] छुरी पर रखे हुए फूल
को पांव की दो उंगलियो से जेते हुए चल
जाना, 'छुरिआगणुकुपुफ धेतुअ पायपुलीहि
उप्ययण। त

'कुसुम यत्रोद्गीय, सुरिकाराज्जापवेन सगुना।
पादाङ्गुलिभिर्गन्धति, तद्विज्ञातव्यमुद्दिग्राहरण'
(दे १, १२१)।

उड्डुय वि [उड्डुयन] उडा हुआ, 'तस्वड्डिय-
पन्निखणुव्व पो' (धर्मवि १३६)।

उड्डुहिअ वि [दे] ऊपर फेंका हुआ (पाम्)।
उड्डुी अक [उड्ड + डी] उड्डाना। उड्डुइ, उड्डुीति

(पि ४७४)। वड्ड उड्डुअत, उड्डुत (दे ६,
६४, उप १०३१ टी)। सड्ड उड्डुऊण,

उड्डुवि (पि ५८६, भवि)।

उड्डुी स्त्री [ओड्डुी] लिपि-विशेष, उत्कल देश
की लिपि (विसे ४६४ टी)।

उड्डुीण वि [उड्डुीण] उडा हुआ (गाया १,
१, पाम्, सुपा ४६४)।

उड्डुडुअ पु [दे] डकार, उदगाट 'जमाइएण
उड्डुडुएण वायनिसणेण' (पिठ)।

उड्डुडुइय } पु [दे] देखो उड्डुडुअ (विद्य
उड्डुअ } ४३४, ४३७)।

उड्डुडुवाडिय पु [उड्डुडुवाटिक] भयवान
महावीर के एक गण का नाम (कप्प)। देखो
उड्डुवाडिअ।

उड्डुडुहिअ देखो उड्डुहिअ (दे १, १३७)।
उड्डुडुय देखो उड्डुडुअ (राज)।

उड्डुडु न [ऊड्डु] १ ऊपर, ऊंचा (अणु)। २
वमन, उलटी, 'उड्डुडुणोरोही कुड्ड' (वह ३)।

३ वि उत्तम, मुख्य, 'अहताए नो उड्डुडुताए
परिणमति' (भग ६, ३, आरवम)। ४ लडा,

दरदायमान, 'खाणुव्व उड्डुडुदेहो काउत्सग पु
ठाड्डु' (आव ६)। ५ ऊपर का, उपरितन

(उवा)। 'कड्डुयग पु [कण्डुयक] तापसों
का एक सम्प्रदाय जो नाभि के ऊपर भाग में

ही खुजलाते हैं (भग ११, ६)। 'काय पु
[काय] शरीर का उपरितन भाग (राज)।

'काय पु [काक] काक, वायस, 'ते उड्डु-
कार्पहि पखजमाराण अवरेहि खजति सएण्ण-

एहि' (सुअ १, ५, ३, ७)। 'गाम वि [गाम]
ऊपर जानेवाला (सुपा ४५६)। 'गामि वि

[गामिन्] ऊपर जानेवाला (सम १५३)।
'चर वि [चर] ऊपर चलनेवाला, आकार

में उड्डनेवाला (गुआदि) (आचा)। 'दिशा
स्त्री [दिश] ऊर्ध्व दिशा (उवा, आव ६)।

'रेणु पु [रेण] विनाए—' (दे १, १२)

इट्टाल न [इट्टाल] इंट का टुकड़ा (दस ५, १, ६५)।

इट्टु वि [इष्ट] १ अभिलषित, अभिप्रेत, वाञ्छित (विपा १, १, सुपा ३७०)। २ पूजित, सत्कृत (श्रौप)। ३ आगमोक्त, सिद्धान्त से अतिरुद्ध (उप ८८२)।

इट्टु न [इष्ट] १ स्वाभ्युपगत, स्व-सिद्धान्त (धर्मस ५१९)। २ न तपो-विशेष, निर्विकृति तप (सम्बोध ५८)। ३ यागक्रिया (स ७१३)।

इट्टि स्त्री [इष्टि] १ इच्छा, अभिलाषा, चाह (सुपा २४६)। २ याग-विशेष (अभि २२७)।

इट्टि स्त्री [कृष्टि] स्त्रीचाव, स्त्रीचना (गा १८)।

इडा स्त्री [इडा] शरीर के बाएँ भाग में स्थित नाड़ी (कुमा)।

इदुर न [दे] गाड़ी (श्रोध ४७६)।

इदुरा न [दे] रसोई ढकने का बड़ा पात्र (राय १४०)।

इदुरिया स्त्री [दे] मिष्टान्न-विशेष, एक प्रकार की मिठाई (सुपा ४८५)।

इदुड वि [ऋद्ध] ऋद्धि-सम्पन्न (भग)।

इदुडि स्त्री [ऋद्धि] १ वैभव, ऐश्वर्य, सम्पत्ति (मुद्र ३, १७)। २ लब्धि, शक्ति, सामर्थ्य (उत्त ३)। ३ पदवी (ठा ३, ४)। गौरव न [गौरव] सम्पत्ति या पदवी आदि प्राप्त होने पर अभिमान और प्राप्त न होने पर उमकी लालसा (सम २, ठा ३, ४)। पत्त वि [प्राप्त] ऋद्धिशाली (परण ११, सुपा ३६०)। म, मत वि [मत] ऋद्धिवाला (निचू १, ठा ६)।

इदुर्हासय वि [दे] याचक-विशेष, माँगन की एक जाति (भग ९, ३३ टी)।

इण } अ [एतत्] यह (दे १, ७६)।

इण देवो दिण्ण (से ४, ३५)।

इण देवो दिण्ण (मे ८, ७१)।

इण्ण न [चिह्न] चिह्न, निशान (से १, १२, पट)।

इण्ण स्त्री [चृण्णा] चृण्णा, प्यास, सृष्टा (गा २३)।

इण्हि अ [इदानीम्] इस समय, इस वक्त (दे १, ७६, पात्र)।

इतरेतरासय पु [इतरेतराश्रय] तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध एक दोष, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा (धर्मस ११५८)।

इति देखो इइ (पि १८)। हास पु [हास] पूर्ववृत्तान्त, अतीतकाल की घटनाओं का विवरण, पुरावृत्त (कप्)। २ पुराणशास्त्र (भग)।

इत्तए देखो इ सक।

इत्तर वि [इत्तर] १ अल्प, थोड़ा (अणु)। २ अल्प-कालिक, थोड़े समय के लिए जो किया जाता हो वह (ठा ६)। ३ थोड़े समय तक रहनेवाला (आ १६)। परिगहा स्त्री [परिग्रहा] थोड़े समय के लिए रखी हुई वेश्या, रखैल, रखात आदि (आव ६)। परिगहिया स्त्री [परिगृहीता] देखो परिगहा (आव ६)।

इत्तरिय वि [इत्वरिक] ऊपर देखो (निचू २, आचा, जवा, पचा १०)।

इत्तरिय देखो इयर (सूत्र २, २)।

इत्तरी स्त्री [इत्तरी] थोड़े काल के लिए रखी हुई वेश्या आदि (पचा १)।

इत्ताहे (अप) अ [अत्र] यहाँ पर (कुमा)।

इत्ताहे अ [इदानीम्] इस समय, इस वक्त, अधुना (पात्र)।

इत्ति देखो इइ (कुमा)।

इत्तिय वि [इयत्, एतावत्] इतना (हे २, १५६, कुमा, प्रासू १३८ पड)।

इत्तरिय वि [इत्वरिक] अल्पकालिक, जो थोड़े समय के लिए किया जाता हो (स ४६, विसे १२६५)।

इत्तिल देखो इत्तिय (हे २, १५६)।

इत्तो देखो इओ (आ १७)।

इत्तोअ देखो इओअ (आ १४)।

इत्तोप्प [दे] यहाँ से लेकर इत प्रभृति (पात्र)।

इत्थ अ [अत्र] यहाँ, इसमें (कप्, कुमा, प्रासू १४१)।

इत्थ अ [इत्थम्] इस तरह, इस प्रकार (परण २)। थ वि [स्थ] नियत आकार-वाला, नियमित (जीव १)।

इत्थय वि [इत्थय] इस तरह रहा हुआ (दस ६, ४, ७)।

इत्थय पु [इत्थय] वह अर्थ (भग)।

इत्थय पु [इत्थय] स्त्री-विषय (पि १६२)।

इत्थय देखो इत्थ (आ १२)।

इत्थि स्त्री [स्त्री] महिला, नारी, इत्थिणि वा पुरिसाणि वा (आचा २, ११, ३)।

इत्थि स्त्री [स्त्री] जनाना, औरत, महिला इत्थी (सूत्र २, २, हे २, १३०)। कला स्त्री [कला] स्त्री के गुण, स्त्री को सीखने योग्य कला (ज २)। कहा स्त्री [कथा] स्त्री-विषयक वार्त्तालाप (ठा ४)। णपुसग पुन [नपुसक] एक प्रकार का नपुसक (निचू १)। णाम न [नामन्] कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्त्रीत्व की प्राप्ति होती है (एया १, ८)। परिसह पु [परिपह] ब्रह्मचर्य (भग ८, ८)। विपजह वि [विप्रजह] स्त्री का परित्याग करनेवाला। २ पु मुनि, साधु (उत्त ८)। वेद, वेय पु [वेद] स्त्री को पुरुष सग की इच्छा। २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्त्री को पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है (भग, परण २३)।

इत्थेण वि [स्त्रैण] स्त्रियों का समूह, स्त्री-जन, लब्धिसि किं न महतो वीणाओ मारिसित्थेणा (उप ७२८ टी)।

इत्थेणि देखो इत्थिणि (आचा)।

इत्थिणि (शौ) देखो इत्थिणि (प्राकृ ८७)।

इत्थिणी } देखो इत्थिणि (सक्ति १६)।

इत्थिचित्त (शौ) न [इत्थिचित्त] इतिहास (मोह १२८)।

इदुर न [दे] धान्य रखने का एक तरह का पात्र (अणु १५१)।

इदुड पु [दे] भौंरा, मधुकर (दे १, ७६)।

इदुग्गिधूम न [दे] तुहिन, हिम (षड्)।

इदुग्गि देखो इदुग्गि (षड्)।

इध (शौ) देखो इध (हे ४, २६८)।

इधम पु [इधम] धनी, आठ्य (पात्र)।

इधम पु [दे] वणिक, व्यापारी (१, ७६)।

इधम पु [इधम] हाथी, हस्ती (जं २, कुमा)।

इधपाल पु [इधपाल] महावत (सम्मत्त १५७)।

इध स [इधम] यह (हे ३, ७२)।

उत्तण वि [उत्तण] चुरणवाली जमीन,
'खित्तिलभूमिवल्लराइ उत्तणपडसकडाइ
डक्कतु' (परह १, १)।

उत्तणुअ वि [उत्तणुअ] अभिमानी, गर्विष्ठ
(पात्र)।

उत्तत्त वि [उत्तत्त] अति-तप्त, बहुत गरम
(सुपा ३७)।

उत्तत्त वि [दे] अव्यासित, आरुढ (पइ)।

उत्तत्थ वि [उत्तत्थ] भय-भीत, त्रास-प्राप्त
(परह १, २, पात्र)।

उत्तद्ध देखो उत्तरद्ध (पिंग)।

उत्तत्प वि [दे] १ गवित, अभिमानी (दे १,
१३१, पात्र)। अधिक गुणवाला (दे १३१)।

उत्तत्प वि [उत्तत्त] देदीप्यमान (राज)।

उत्तम पु [उत्तम] एक दिन का उपवास
(सबोध ५८)।

उत्तम वि [उत्तम] १ श्रेष्ठ, प्रशस्त, सुन्दर
(कप्प, प्रासू ६)। २ प्रधान, मुख्य (पचा ४)।

३ परम, उत्कृष्ट, 'उत्तमकटुपत्त' (भाग ७, ६)।

४ अन्त्य, अन्तिम (राज)। ५ पु मेरु-पर्वत
(इक)। ६ सयम, त्याग (दसा ५)। ७

राक्षस वश का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एक
लकेश (पउम ५, २६४)। ८ पु [०] १

श्रेष्ठ वस्तु। २ मोक्ष (उत्त २)। ३ मोक्ष-
मार्ग; 'जीवा ठिया परमटुम्मि' (पउम २,
८१)। ४ अनशन, मरण (शोध ७)।

५ ०ण वि [०] लेनदार (नाट)।

उत्तम वि [उत्तमस्] अज्ञान-रहित,
'तिविहत्तमा उम्मुक्का, तम्हा ते उत्तमा हुत्ति'
(आवनि ५५, कप्प)।

उत्तमग न [उत्तमाङ्ग] मस्तक, सिर (सम
५०, कुमा)।

उत्तमा ली [उत्तमा] १ 'शयाधम्मकहा'
का एक अध्थयन (याया २, १)। २ इन्द्राणी
(याया २, १, डा ४, १)।

उत्तमा ली [उत्तमा] पक्ष की प्रथम रात्रि
(सुज्ज १०, १४)।

उत्तम्म अक [उत् + तम्] खिन्न होना,
उद्विग्न होना। उत्तम्मइ (स २०३)। वहु
उत्तम्मत, उत्तम्ममाण (नाट)। संक
उत्तम्मिअ (नाट)।

उत्तम्मिअ वि [उत्तान्त] खिन्न, दिलगीर
(दे १, १०२, पात्र)।

उत्तर अक [उत् + त्] १ बाहर निकलना।
२ सक पार करना। उत्तरिस्सामो (स
१०१)। वहु उत्तरत,

'पेच्छति अणिमिसच्छा पहिआ

हलिअस्स पिट्टपडुरिअ।

धूअ दुद्धसमुदुत्तरतलच्छि

विअ सअएहा' (गा ३८८)।

'उत्तरताण य मरु, खषवारो तिमाए मरिउ-
मारद्धो' (महा)। संक उत्तरित्तु (वि ५७७)।

हेह उत्तरित्तए (पि ५७८)।

उत्तर अक [अव + त्] उतरना, नीचे आना।

वहु उत्तरमाण, 'उत्तरमाणस्स तो विमा-
णाओ' (सुपा ३४०)। उत्तर वि [उत्तर]

१ श्रेष्ठ, प्रशस्त (पउम ११८, ३०)। २
प्रधान, मुख्य (सूय १, ३)। ३ उत्तर-दिशा

मे रहा हुआ (ज १)। ४ उपरि वर्ती,
उपरितन (उत्त २)। ५ अधिक, अतिरिक्त,

'अट्टुत्तर —' (श्रीप, सूय १, २)। ६
अवान्तर, भेद, शाखा, 'उत्तरपगइ' (कम्म

१)। ७ ऊन का बना हुआ वस्त्र, कम्बल
वगैरह (कप्प)। ८ न जवाब, प्रत्युत्तर (वव

१)। ९ वृद्धि (भाग १३, ४)। १० पु.
ऐरवत क्षेत्र के वाईसवें भावी जिनदेव का

नाम (सम १५४)। ११ वर्षा कल्प (कप्प)।
१२ एक जैन मुनि, आर्य-महागिरि के प्रथम

शिष्य (कप्प)। 'कचुय पु [कञ्जक]
वत्तर-विशेष (विपा १, २)। 'करण न

[करण] उपस्कार, सत्कार, विशेष-पुराणान,
'खडियविरहियाण,

मूलपुराण सउत्तरपुराण।

उत्तरकरण कीरड, जह

सगड-रहण-गेहाए' (आव ५)।

'कुरा ली [कुरु] स्वनाम-ख्यात क्षेत्र-विशेष,
'उत्तरकुराए ए भते। कुराए केरिसए आगार-
भावपाडोयारे परएत्ते' (जीव ३)। 'कुरु

पु [कुरु] १ वर्ष-विशेष, 'उत्तरकुत्तमाण-
सच्छरावो' (पि ३२८, सम ७०, परह १,
४, पउम ३५, ५०)। २ देव-विशेष (ज २)।

'कुरुकूड न [कुरुकूट] १ माल्यवत पर्वत
का एक शिखर (डा ६)। २ देव-विशेष

(ज ४)। 'कोडि ली [कोटि] सगीतशास्त्र-
प्रसिद्ध गान्धार-ग्राम की एक मूच्छना (डा

७)। गंधारा ली [गान्धारा] देखो
पूर्वोक्त अर्थ (डा ७)। 'गुण पु [गुण]

शाखा गुण, अवान्तर गुण (भाग ७, ३)।
'चावाला ली [चावाला] नगरी-विशेष

(आवम)। 'चूल [चूड] गुरु वन्दन का एक
दोप, गुरु को वन्दन कर वडे आवाज से 'मल-

एण वदामि' कहना (धम २)। 'चूलिया ली
[चूलिका] देखो अनन्तर-उक्त अर्थ (वृह ३,

गुभा २५)। 'ड्ड न [०] पिछला आषा
भाग उत्तरार्ध (ज ४)। 'दिसा ली [दिक्]

उत्तर दिशा (सुर २, २२८)। 'द्व न [०]
पिछला आषा भाग (पिंग)। 'पगइ 'पगडि

ली [प्रकृति] कर्मों के अवान्तर भेद (उत्त
३३, सम ६६)। 'पच्चथिमिल पु [पा-

आत्थ] वायव्य कोण (पि)। 'पट्ट पु
[पट्ट] विछौना के ऊपर का वस्त्र (शोध

१५६ भा)। 'पारणग न [पारणक]
उपवासदि व्रत की समाप्ति, पारण (काल)।

'पुरच्छिम, 'पुरत्थिम पु [पौरत्थ] ईशान कोण,
उत्तर और पूर्व के बीच की

दिशा (याया १, १, भाग, पि ६०२)।
'पोट्टवया ली [प्रौट्टपदा] उत्तरा भाद्रपदा

नक्षत्र (सुज ४)। 'फग्गुणी ली [फाल्गुनी]
उत्तर-फाल्गुनी नक्षत्र (कप्प, पि ६२)।

'वल्लिस्सह पु [वल्लिस्सह] १ एक प्रसिद्ध
जैन साधु (कप्प)। २ उत्तर वल्लिस्सह नामक

स्थविर से निकाला हुआ एक गण, भगवान्
महावीर का द्वितीय गण—साधु संप्रदाय

(कप्प, डा ६)। 'भद्वया ली [भाद्रपदा]
नक्षत्र-विशेष (डा ६)। 'मदा ली [मन्दा]

मध्यम ग्राम की एक मूच्छना (डा ७)।
'महुरा ली [मथुरा] नगरी विशेष (सम)।

'वाय पु [वाद] उत्तरवाद (आचा)।
'विक्रिय, 'वेउन्निय वि [वैक्रिय]

स्वाभाविक-मिन्न वैक्रिय, वनावटी वैक्रिय
(कम्म १ कप्प)। 'साला ली [शाला]

१ क्रीडा गृह। २ पीछे से बनाया हुआ घर।
३ वाहन-गृह हाथी-घोडा आदि बाँधने का

स्थान, तबेला (निदू ८)। 'साहण, 'साहय
वि [साधक] विद्या, मन्त्र वगैरह का

उअ वि [उदञ्च] उत्तर, उत्तर दिशा मे स्थित । °महिहर पु [°महिधर] हिमाचल-पर्वत (गडड) ।

उअअ न [उदक] पानी, जल (गा ५३, से ६, ८८) ।

उअअ देखो उदय (से १०, ३१) ।

उअअ न [उदर] पेट, उदर (से ६, ८८) ।

उअअ वि [दे] ऋषु, सरल, सीधा (दे १, ८८) ।

उअअद (शौ) देखो उवगय (नाट) ।

उअआरअ वि [उपकारक] उपकार करने-वाला (गा ५०) ।

उअआर वि [उपकारिन्] ऊपर देखो (विक २५) ।

उअइन्व वि [उपजीव्य] आश्रय करने योग्य, सेवा करने योग्य (से ६, ६) ।

उअऊह सक [उप + गूह] आलिंगन करना । सक उअऊहेऊण (पि ५८६) ।

उअएस देखो उवएस (गा १०१) ।

उअचण न [उदञ्चन] १ ऊँचा फेंकना । २ ढकने का पात्र, आच्छादक पात्र (दे ४, ११) ।

उअचिद (शौ) वि [उदञ्चित] १ ऊँचा उगाया हुआ, ऊँचा फेंका हुआ (नाट) ।

उअत पु [उदन्त] हकीकत, वृत्तान्त, समाचार (पाम, प्राम) ।

उअकिद (शौ) वि [उपकृत] जिसपर उपकार किया गया हो वह (पि ६४) ।

उअकिअ वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (दे १, १०७) ।

उअगअ देखो उवगय (गा ६४४) ।

उअचित्त वि [दे] अपगत, निवृत्त (दे १, १०८) ।

उअजीवि वि [उपजीविन्] आश्रित (अभि १८६) ।

उअञ्माअ देखो उवञ्माय (नाट) ।

उअट्टी ली [दे] नीवी, ली के कटि-वल्ल की नापी, 'उअट्टी उवओ नीवी' (पाम) ।

उअट्टिअ देखो उवट्टिय (प्राप) ।

उअणिअ } देखो उवणीय (प्राक ६) ।
उअणीअ }

उअण्णास देखो उवण्णास (नाट) ।

उअत्तन देग उवट्ट = उद + वृत् ।

उअत्थाण देखो उवट्ठाण (नाट) ।

उअत्थिअ देखो उवट्ठिय (से ११, ७८) ।

उअदिट्ट देखो उवइट्ट (नाट) ।

उअभुत्त देखो उवभुत्त (रभा) ।

उअभोग देखो उवभोग (नाट) ।

उअमिञ्जत वक्क [उपमीयमान] जिसकी

तुलना की जाती हो वह (काप्र ८६६) ।

उअर न [उदर] पेट (कुमा) ।

उअरिं } देखो उवरि (गा ६४, से ८,
उअरिं } ७५) ।

उअरी ली [दे] शाकिनी, देवी-विशेष (दे १, ६८) ।

उअरुम्भ देखो उवरुम्भ । उअरुम्भदि (शौ) (नाट) ।

उअरोअ } देखो उवरोह (प्राप, नाट) ।
उअरोह }

उअलद्ध देखो उवलद्ध (नाट) ।

उअविट्ठअ न [औपविष्टक] आसन (प्राक १०) ।

उअविय वि [दे] उच्छिष्ट, 'इहरा भे णिसि-भत्त उअविय चैव गुरुमादी' (वृह १) ।

उअसत्प देखो उवसत्प । उअसत्प (नविम ५१) ।

उअसम } देखो उवसम = उप + शम् ।
उअसम्म } उअसमद्, उवसम्मद् (प्राक ६६)

उअह अ [दे] देखो, देखिए (दे १, ६८, प्राप) ।

उअहस देखो उवहस । उअहसद् (प्राक ३४) ।

उअहार देखो उवहार (नाट) ।

उअहारी ली [दे] दोध्री, दोहनेवाली ली (दे १, १०८) ।

उअहि पु [उदधि] १ समुद्र, सागर (गडड) ।

२ स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर राजकुमार (पउम ५, १६६) । ३ काल परिमाण, साग-रोपम (सुर २, १३६) । ४ स्वनाम ख्यात एक जैन मुनि (पउम २०, ११७) । देखो उदधि ।

उअहि देखो उवहि = उपधि (पञ्च ६) ।
उअहुज्जत देखो उवभुज ।

उअहोअ देखो उवभोग (प्रवी ३०, नाट) ।

उआअ देखो उवाय (नाट) ।

उआअण देखो उवायण (माल ४६) ।

उआर देखो उराल (सुपा ६०७, कप्पू) ।

उआर देखो उवयार (पड, गडड) ।

उआलभ देखो उवालंभ = उपा + लम् । कृ.
उआलभणिज्ज (नाट) ।

उआलभ देखो उवालंभ = उपात्तम्भ (गा २०१) ।

उआलभ देखो उआलंभ = उपा + लम् ।
उआलभेमि (त्रि ८२) ।

उआलि ली [दे] श्रवतस, शिरोभूषण (दे १, ६०) ।

उआस वि [उदास] नीचे देखो (पिग) ।

उआस देखो उवास = उपा + आस् । कवक-
उआसिज्जमाण (हास्य १४०) ।

उआसीण वि [उदासीन] १ उदासी, दिल-
गीर । २ मध्यस्थ, तटस्थ (स ५४६, नाट) ।

उआहरण देखो उदाहरण (मन ३) ।

उइ सक [उप + इ] समीप जाना । उएइ,
उएउ (पि ४६३) ।

उइ अक [उद् + इ] उदित होना । उएइ
(रभा) । वक्क उइयत (रभा) ।

उइ देखो उउ, 'अन्नोवि हुतु उइओ सरिसा परं
ते' (रभा) । °राय पु [°राज] वसन्त ऋतु
(रभा) ।

उइअ वि [उदित] १ उदय प्राप्त, उदगत
(सुपा १२७) । २ उक्त, कथित (विसे २३३,
८४६) । °परक्कम पु [°पराक्कम] इक्ष्वाकु-
वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ६) ।

उइअ वि [उचित] योग्य, लायक (से ८,
१०३) ।

उइत्तण न [दे] उत्तरीय वल्ल, चादर (दे १,
१०३, कुमा) ।

उइद् पु [उपेन्द्र] इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु
का वामन अवतार, जो अदिति के गर्भ से हुआ
था (हे १, ६) ।

उइट्ट वि [अपकृष्ट] हीन, सकुचित, 'आउसिय-
अवसत्तम्मउइट्टगडदेस' (शाया १, ८) ।

उइण्ण देखो उदिण्ण (ठा ५, विसे ५०३) ।

उइण्ण वि [उदीच्य] उत्तर दिशा सम्बन्धी,
उत्तर दिशा मे उत्पन्न (आवम) ।

उइन्न देखो ओइण्ण (सम्मत्त ७७) ।

उइयत देखो उइ = उद् + इ ।

उईण देखो उदीण (राय) ।

उईर देखो उदीर, 'उईरिइ अइपीड' (श्रा
२७) । वक्क उईरंत (पुष्प १३) । सक-
उईरडत्ता (सूअ १, ६) ।

पगाहि उत्ताल' (ठा ७), 'भीय दुयमुपिच्छ-
थ्यमुत्ताल च कमसो मुणोयव' (जीव ३)।

उत्ताल न [दे] लगातार रुदन, अन्तर-रहित
क्रन्दन की आवाज (दे १, १०१)।

उत्तालय देखो उत्तालयण।

उत्तावल न [दे] उतावल, शीघ्रता। २ वि
शीघ्रकारी, आकुल, 'हल्लुतावलिगिह्दासि-
हियतनकालकरणिज्जे' (सुर १०, १)।

उत्तास सक [उत् + त्रासय्] १ भयभीत
करना, डगना। २ पीडना, हैरान करना।
उत्तासेदि (शौ) (नाट)। कृ उत्तासणिज्ज
(वहु)।

उत्तास पु [उत्त्रास] १ त्रास, भय। २
हैरानी (कप्पु)।

उत्तासइत्तु वि [उत्त्रासयिच्] १ भय-भीत
करनेवाला। २ हैरान करनेवाला (आचा)।

उत्तासणअ } वि [उत्त्रासनक] १ भयकर,
उत्तासणग } उद्वेग-जनक। २ हैरान करने-
वाला (पउम २२, ३५, याया १, ८)।

उत्तासिय वि [उत्त्रासित] १ हैरान किया
हुआ। २ भयभीत किया हुआ (सुर १, २४७,
आव ४)।

उत्ताहिय वि [दे] उत्तिक्षिप्त, फेंका हुआ (दे
१, १०६)।

उत्ति वी [उत्ति] वचन, वाणी (आ १४,
सुपा २३, कप्पु)।

उत्तिंग पु [उत्तिङ्ग] १ गर्दभाकार कीट-विशेष
(धर्म २, निव्व १३)। २ चीटियों का
बिल, 'उत्तिंगपणुगदगमट्टीमक्कडासताणुसक-
मणे' (पडि)। ३ चीटियों की सन्तान (वसा
३)। ४ तुण के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु
(आचा)। ५ वनस्पति-विशेष, सर्पच्छन्ना,
गुजराती में जिसको बिलाडी नौ टोप' कहते हैं,
'गह्येसु न चिदिट्टुज्जा,

बीएसु हरिएसु वा।

उदगम्मि तहा तिच्च,

उत्तिंगपणुगेसु वा' (वस ८, ११)।

६ न छिद्र, विवर, रन्ध्र (निव्व १८, आचा
२, ३, १, १६)। ७ लोण न [ल्यन] कीट-
विशेष का गृह—बिल (कप्पु)।

उत्तिंगपणग पुन [उत्तिङ्गपनक] कीटिका-
नगर, चीटियों का बिल (वास ५, १, ५६)।

उत्तिट्ट अक [उत् + स्था] १ उठाना। २
उदित होना। वक्क 'उत्तिट्टुने दिवायरे' (उत्त
११, २४)।

उत्तिण वि [उत्तुण] तुण-शून्य,

'भक्कावाउत्तिणवरविवर-

पलोट्टतसलिलधाराहि'।

कुडुलिहिशोहिक्किअह

रक्खइ अज्जा कअलेहि'

(गा १७०)।

उत्तिणिअ वि [उत्तुणित] तुण-रहित किया
हुआ, 'भक्कावाउत्तिणिए घरम्मि' (गा १३५)।

उत्तिण वि [उत्तीण] १ बाहर निकला हुआ,
'उत्तिणणा तलागाओ' (महा)। दिट्टु च महा-
सरवर, मज्जिओ जहाविहिं तम्मि, उत्तिणणो
य उत्तरपच्छिमतीरे' (महा)। २ पार पहुँचा
हुआ, पार-प्राप्त (स ३३२), 'उत्तिणणा
समुद्द, पत्ता वीयभय' (महा)। ३ जो कम
हुआ हो, 'सचरइ चिरपडिगहलायएणुत्ति-
सरणवेससोहगंगे' (गउड)। ४ रहित, 'सोहइ
अदोसभावो गुणोव्व जइ होइ मच्छसत्तिणणो
(गउड)। ५ निपटा हुआ, जिसने कार्य समाप्त
किया हो वह, 'एहाणुत्तिणणाए' (गा ५५५)।
६ उल्लिखित, अतिक्रान्त (राज)।

उत्तिण वि [अवतीर्ण] १ नीचे उतरा हुआ,
'रायादक्को, वेण साहा गहिया, उत्तिणणो,
निराणदो किकायव्वविमूढो गओ चप' (महा)।
उत्तिथ्य पुन [उत्तीर्थ] कुपथ, अपमार्ग (भवि)।
उत्तिम देखो उत्तम (पड, पि १०१, हे १,
४१, निव्व १)।

उत्तिमग देखो उत्तमग (महा, पि १०१)।

उत्तिन्न देखो उत्तिण (काप्र १४६, कुमा)।

उत्तिरिविडि } वी [दे] भाजन वगैरह का
उत्तिवडा } ऊँचा ढेर, भाजनों की थपनी,
गुजराती में जिसको 'उत्तेवड' कहते हैं (दे
१, १२२), 'फोडेइ विरालो लोलायाए सारेवि
उत्तिवड' (उप ७२८ टी)।

उत्तंग वि [उत्तुङ्ग] ऊँचा, उन्नत (महा,
कप्पु, गउड)।

उत्तुड वि [उत्तुण्ड] उन्मुड, ऊर्ध्व-मुड
(गउड)।

उत्तुण वि [दे] गर्व-मुक्त, हटत, अभिमानी
(दे १, ६६, गउड)।

उत्तुप्पिय वि [दे] स्तिष, चिकना (विपा
१, २)।

उत्तुय सक [उत् + तुद] पीटा करना,
हैरान करना। वक्क उत्तुयत (विपा १, ७)।

उत्तरिद्धि वी [दे] गर्व, अभिमान। २ वि
गाँवत, अभिमानी (दे १, ६६)।

उत्तुर्व वि [दे] दृष्ट, देखा हुआ (पड)।

उत्तुहिअ वि [दे] उत्खाटित, छिन, नट
(दे १, १०५, १११)।

उत्तुह पु [दे] किनारा-रहित इतारा, तट-
शून्य कूप (दे १, ६४)।

उत्तेअ वि [उत्तेजस्] १ तेजस्वी, प्रखर।

२ पु गन्नावृत्त का एक भेद (पिंग, नाट)।

उत्तेअण न [उत्तेजन] उत्तेजन (युद्धा १६८)।

उत्तेइअ } वि [उत्तेजित] उद्दीपित, प्रोत्सा-
उत्तेजिअ } हित, प्रेरित (वस ३, पाप्र)।

उत्तेड } पु [दे] बिन्दु (पिएड १६),
उत्तेडय } 'सितो य एसो धउउडएहि' (स
२६४)।

उत्थ न [उत्थ] १ स्तोत्र-विशेष। २ योग-
विशेष (विसे)।

उत्थ वि [उत्थ] उत्पन्न, उत्थित (सुपा
१६६, गउड)।

उत्थ (शौ) देखो उट्ट = उत् + स्था। उत्थेदि
(प्राक्क ६४)।

उत्थइय वि [अवस्तृत] १ व्याप्त (से ४,
३८)। २ प्रसारित, फैलाया हुआ। ३

आच्छादित, 'अच्छरगमउयमसूराउच्छ
(? त्य)-इय महासण रयावेइ' (याया १, १,
पि ३०६)।

उत्थंगिअ देखो उत्थयिअ = उत्तमिअ (पि
५०५)।

उत्थय सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना,
उन्नत करना। उत्थयइ (हे ४, ३६)।

उत्थय सक [उत् + स्तम्भ्] १ उठाना।
२ अवलम्बन देना। ३ रोकना (गउड, से
५, ६)। उत्थयेइ (गा ७२४)।

उत्थय सक [उत् + क्षिप्] ऊँचा फेंकना।
उत्थयइ (हे ४, १४४)। सक उत्थयिअ
(कुमा)।

उत्थय सक [रुध्] रोकना। उत्थयइ (हे
४, १३३)।

उर्कंठिय } वि [उत्करिठत] उत्सुक (गा
उर्कंठिर } ५४२, सुर ३, ८६, पउम ११,
उर्कठुलय } ११८, वज्जा ६०) ।

उर्कड वि [उत्करिठत] खूब छटा हुआ,
विशेष करिठत (पिंड १७१) ।

उर्कडय सक [उत्करिठत] पुलकित करना,
'दियसेवि भूअसभावणाए उर्कडयति अगाड'
(गउड) ।

उर्कडय वि [उत्करिठत] पुलकित, रोमाञ्चित
(गउड) ।

उर्कडा स्त्री [दे] धूस, रिशवत (दे १,
६२) ।

उर्कडिअ वि [दे] १ आरोपित। २ खरिडत
(पड) ।

उर्कन वि [उत्क्रान्त] ऊँचा गया हुआ
(भवि) ।

उर्कति } स्त्री [दे] देखो उर्कदा (दे १,
उर्कती } ८७) ।

उर्कद वि [दे] विप्रलब्ध, ठगा हुआ, वञ्चित
(पड) ।

उर्कदल वि [उत्क्रन्दल] अक्रुरित (गउड) ।

उर्कदि } स्त्री [दे] कूपतुला (दे १, ८७) ।
उर्कदी }

उर्कप अक [उत् + कम्प] कांपना,
हिलना ।

उर्कप पु [उत्कम्प] कम्प, चलन (साण,
गा ७३५) ।

उर्कपिय वि [उत्कम्पित] १ चञ्चल किया
हुआ (राज) । २ न कम्प, हिलन,
'गीमामुक्कपिअपुलइएहि जाणति एचिउ
घएणा । अम्हारिसीहि दिट्ठे, पिअम्मि
अप्पावि वीसरिओ' (गा ३६१) ।

उर्कपिय वि [दे] घवलित, सफेद किया
हुआ (कम्प) ।

उर्कपयन [दे अवकम्पन] काठ पर काठ
के हाते से घर की छत बाँधना, घर का
सन्धार-विशेष (वृह १) ।

उर्कपिय वि [दे अवकम्पित] काठ से
बाधा हुआ (राज) ।

उर्कच्छ वि [उत्कच्छ] स्फुट, स्पष्ट (पिग) ।

उर्कच्छा स्त्री [उत्कच्छा] छन्द-विशेष
(पिग) ।

उर्कच्छिआ स्त्री [औपकक्षिकी] जैन
साध्वियो को पहनने का वस्त्र-विशेष
(शोध ६७७) ।

उर्कज्ज वि [दे] अनवस्थित, चञ्चल (षड्) ।
उर्कडि स्त्री [अपकृष्टि] अपकर्ष, हानि
(वव १) ।

उर्कडि स्त्री [उत्कृष्टि] उत्कर्ष, 'महता
उर्कडिसीहणादकलकरवेण' (सुज्ज १९—
पत्र २७८) । देखो उर्कडि ।

उर्कड वि [उत्कृत] १ तीव्र, प्रचण्ड, प्रखर
(एदि, महा) । २ विशाल, विस्तीर्ण (कम्प,
सुर १, १०६) । ३ प्रबल (उवा, सुर ६,
१७२) ।

उर्कड देखो दुर्कड (उप ६४६) ।

उर्कडिय वि [दे] तोडा हुआ, छिन्न (पाअ) ।

उर्कडिय देखो उर्कडुडुय (कस) ।

उर्कड्ड सक [उत् + कर्षय] उत्कृष्ट करना,
बढाना । उर्कड्डए (कम्म ५, ६८ टी) ।

उर्कड्डग पुं [अपकर्षक] १ चोर की एक-
जाति—जो घर से घन आदि ले जाते हैं ।
२ जो चोरो को बुलाकर चोरी कराते हैं । ३
चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक
(परह १, ३ टी) ।

उर्कडिडय वि [उत्कर्षित] १ उत्पाटित,
उठाय हुआ । २ एक स्थान से उठा कर
अन्यत्र स्थापित (पिंड ३६१) ।

उर्कण वि [उत्कर्ण] सुनने के लिए उत्सुक
(से ६, १६) ।

उर्कत्त सक [उत् + कृत] काटना, कतरना ।
वकृ उर्कत्तत (सुपा २१६) ।

उर्कत्त वि [उत्कृत्त] कटा हुआ, छिन्न
(विपा १, २) ।

उर्कत्तण न [उत्कर्त्तण] काट डालना, छेदन
(पुपफ ३८४) ।

उर्कत्तिय देखो उर्कत्त = उत्कृत्त (पउम
५६, २४) ।

उर्कत्थण न [उत्कर्त्थण] उखाडना (परह
१, १) ।

उर्कत्थण पु [उत्कर्त्थण] शास्त्र-निषिद्ध आचरण
(पचभा) ।

उर्कनाह पु [दे] उत्तम अश्व की एक जाति
(सम्मत् २१६) ।

उर्कम सक [उत् + क्रम] १ ऊँचा जाना ।
२ उलटे क्रम से रखना । वकृ उर्कमत
(आवम) । सक उर्कमिऊणं (विसे
३५३१) ।

उर्कम पु [उत्क्रम] उलटा क्रम, विपरीत
क्रम (विसे २७१) ।

उर्कमण न [उत्क्रमण] ऊर्ध्व गमन । २
बाहर जाना (समु १७२) ।

उर्कमिन् वि [उत्क्रमन्] १ प्रारब्ध । २
क्षीण, 'अभागमितम्मि वा दुहे, अहवा उर्कमिते
भवतीए । एगस्स गती य आगती, विदुम ता
सरए ण मन्इ' (सुअ १, २, ३, १७) ।

उर्कर सक [उत् + कृ] खोदना । कवकृ
उर्करिज्जमाण (आवम) ।

उर्कर पु [उत्कर] १ समूह, सघात, 'सवरु-
क्कररसड्डे' (सुपा ५१८) । २ कर-रहित,
राज-देय शुल्क से रहित (एया १, १) ।

उर्करड देखो उर्कर = उत्कर, 'कस्तावि
उत्तरीय गहिऊए कओ अ उर्करडो'
(सिरि ७६५) ।

उर्करड पु [दे] १ अशुचि राशि । २ जहाँ
मैला इकट्ठा किया जाता है वह स्थान (आ
२७, सुपा ३५५) ।

उर्करिअ वि [दे] १ विस्तीर्ण, आयत । २
आरोपित । ३ खरिडत (षड्) ।

उर्करिअ वि [उत्कीर्ण] खोदित, खोदा
हुआ, 'टकुक्करियव्व निच्चलनिहितलीयणा'
(महा) ।

उर्करिद (शौ) वि [उत्कृत] ऊँचा किया
हुआ (स्वप्न ३६) ।

उर्कारया स्त्री [उत्कारिका] जैसे एरएड वे
बीज से उसका छिलका अलग होता है उस
तरह अलग होना, भेद-विशेष (अग ५, ४) ।

उर्कारिस सक [उत् + कृष्] १ खोचना
२ गर्व करना, बडाई करना । वकृ उर्कारिसत
(से १४, ६) ।

उर्कारिस देखो उर्करस = उत्कर्ष (उव
विसे १७६६) ।

[वस्ति] हति, पानी भरने का मशक (शाया १, १८)। 'सिहा ली [शिखा] बेला (ठा १०)। 'सीम पु [सीमन्] पर्वत-विशेष (इक)।

उदग वि [उदग्र] १ सुन्दर, मनोहर, 'तत्तो दट्टु तीए ख्व तह जोव्वणमुदग' (सुर १, १२२)। २ जग, उत्कट, प्रखर (ठा ४, २, शाया १, १, सत्त ३०)। ३ प्रधान, मुख्य, 'उदगचारित्तवो महेत्ती' (उत्त १३)।

उदङ्क पु [उदङ्क] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७)।

उदत्त वि [उदात्त] उदार, अकृपण (सबोध ३८)।

उदत्त वि [उदात्त] स्वर-विशेष, जो उच्च स्वर से बोला जाय वह स्वर (विसे ८५२)।

उदन्ना ली [उदन्या] तुपा, तरस, पिपासा (उप १०३१ टी)।

उदय देखो उदग (शाया १, ८, सम १५३, उप ७२८ टी, प्रासू ७२, परण १)।

उदय पु [उदय] लाभ (सूत्र २, ६, २४)।

उदय पु [उदय] १ अभ्युदय, उन्नति, 'जो एवविहपि कज्जं आयरइ, सो कि वभदत्त-कुमारस्स उदय इच्छइ?' (महा)। २ उत्पत्ति (विसे)। ३ विपाक, कर्म-परिणाम,

'वहमारणअम्भखाणदाए

परवरविलोवणाईणं।

सव्वजहन्नो उदमो वसणुणिमो

एककसि कयाण' (उव)।

४ प्रादुर्भाव, उदगम, 'आइच्चोदए चदगहा इव निप्पभा जाया सुरा' (महा),

'उदयम्मिनि अत्थमणोनि

धरइ रत्ततण दिवसनाहो।

रिद्धीसु भावईसुनि

तुल्लच्चिय गूण सप्पुरिसा।'

(प्रासू १२)।

५ भरतक्षेत्र के भावी सातवें जिनदेव (सम १५३)। ६ भरतक्षेत्र में होनेवाले तीसरे जिनदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५४)। ७ स्वनाम-ख्यात एक राजकुमार (पउम २१, ५६)। 'यल पु [यल] पर्वत-विशेष, जहाँ सूर्य उदित होता है (सुग ८८)।

उदयत देखो उदि।

उदयण पु [उदयन] १ राजा सिद्धराज का प्रसिद्ध मन्त्री (कुप्र १४३)।

उदयण पु [उदयन] १ एज राजकुमार, कोशाम्बी नगरी के राजा शतानीक का पुत्र (विपा १, ५)। २ एक विख्यात जैन राजा (कप्प)। ३ न उन्नति, उदय। ४ वि उन्नत होनेवाला, प्रवर्धमान (ठा ५, ३)।

उदर न [उदर] १ पेट, जठर (सूत्र १, ८)। २ पेट की बीमारी, 'खयजरवणुआसासो-सोदराणि' (जहुम १५)।

उदरंभरि वि [उदरंभरि] स्वार्थी, अकेलपेढ़ (पि ३७६)।

उदरि वि [उदरिन्] पेट की बीमारीवाला (परह २, ५)।

उदरिय वि [उदरिक्] ऊपर देखो (विपा १, ७)।

उदवाह वि [उदवाह] १ पानी वहन करने-वाला, जल-वाहक। २ पु छोटा प्रवाह (भग ३, ६)।

उदसी [दे] [उदञ्चित्?] तक

उदहि पु [उदधि] १ समुद्र, सागर (कुमा)। २ भवनपति देवों की एक जाति, उदधिकुमार (परह १, ४)। 'कुमार पुं [कुमार] देवों की एक जाति (परण १)। देखो उअहि।

उदाइ पु [उदायिन्] १ एक जैन राजा, महाराजा कोणिक का पुत्र, जिसको एक दुष्ट ने जैन साधु बनकर धर्मच्छल से मारा था और जो भविष्य में तीसरा जिनदेव होगा (ठा ६, ती)। २ पु राजा कूणिक का पट्ट-हस्ती (भग १६, १)।

उदाइण देखो उदायण (कुलक २३)।

उदात्त देखो उदत्त (एदि १७४ टी)।

उदायण पु [उदायन] सिन्धु-देश का एक राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८, भग ३, ६)।

उदार देखो उराल (उप पृ १०८)।

उदासि वि [उदासिन्] उदास, उदासीन।

'व न [त्व] भौदासीय (रंभा; स ४५६)।

उदासीण वि [उदासीन] १ मन्मथ, तटस्थ (परह १, २)। २ उपेक्षा करनेवाला (ठा ६)।

उदाहड वि [उदाहृत] कथित, दृष्टान्तित (राज)।

उदाहर सक [उदा + ह] १ कहना। २ दृष्टान्त देना। उदाहरति (पि १४१), 'भासं मुसं नेव उदाहरिजा' (सत्त ४३)। भूका, उदाहु (आचा; उत्त १४, ६), उदाहु (सूत्र १, १२, ४)। वक्र उदाहरत (सूत्र १, १२, ३)।

उदाहरण न [उदाहरण] १ कथन, प्रति-पादन। २ दृष्टान्त (सूत्र १, १२, विसे)।

उदाहिय वि [उदाहृत] १ कथित, प्रति पादित। २ दृष्टान्तित (आचा; शाया १, ८)।

उदाहिय वि [दे] उत्कृष्ट, फेंका गया (पह)।

उदाहु देखो उदाहर।

उदाहु अ [उताहो] अथवा, या (उवा)।

उदाहु देखो उदाहर।

उदाहो देखो उदाहु = उताहो (स्वण ७०)।

उदि अक [उद् + इ] १ उन्नत होना। २ उत्पन्न होना। (विसे १२६६, जीव ३)। वक्र-

उदयत (भग, पउम ८२, ५६, सुपा १६८)।

कवक उदिज्जंत (विसे ५३०)।

उदिक्खिअ वि [उदीक्षित] अवलोकित (दे ६, १४४)।

उदिण वि [उदीच्य] उत्तर-दिशा में उत्पन्न (आचम)।

उदिण्ण वि [उदीर्ण] १ उदित, उदय-भ्रात उदिण्ण (ठा ५), 'इको वि इको विसमो उदिणो' (सत्त ५२)। २ फलोन्मुख (कर्म) (परण १६, भग)। ३ उत्पन्न, 'जहा उदिणो नणु कोवि वाहो' (सत्त ६, था २७)। ४ उत्कट, प्रवृत्त, 'अणुत्तरोववाइयाए भते। देवा कि उदिणए मोहा, उवसतमोहा, खीणमोहा?' (भग ५, ४)।

उदिय वि [उदित] १ उदित, उदगत (सम ३६)। २ उन्नत (ठा ४)। ३ उक्त, कथित (विसे ३५७६)।

उदीण वि [उदीचीन] १ उत्तर दिशा से संबन्ध रखनेवाला, उत्तर दिशा में उत्पन्न (आचा; पि १६५)। 'पाईणा ली [प्राचीना] ईशान-कोण (भग ५, १)।

उदीणा ली [उदीचीना] उत्तर दिशा (ठा १, १)।

उत्कृञ्ज अक [उत् + कृञ्] ऊँचा होकर
नीचा होना । सकृ उत्कृञ्जिय (आचा) ।

उत्कृञ्जिय न [उत्कृञ्जित] अव्यक्त शब्द
(नीच) ।

उत्कृष्ट न [उत्कृष्ट] वनस्पति का कूटा हुआ
शृण (आचा, निचू १, ४) ।

उत्कृष्ट वि [उत्कृष्ट] ऊँचे स्वर से आकृष्ट
(दे १, ४७) ।

उत्कृष्टुग } वि [उत्कृष्टुग] आसन-विशेष,
उत्कृष्टुय } निषद्या-विशेष (भग ७, ६, श्रोध

१५६ भा, णाया १, १) । ली उत्कृष्टुई
(ठा ५, १) । °सणिय वि [°सणिक]

उत्कृष्टुग-आसन से स्थित (ठा ५, १) ।
उत्कृष्ट अक [उत् + कृष्ट] कूटना, उछलना ।

उत्कृष्ट (उत् २७, ५) ।
उत्कृष्टा देखो उत्कृष्टडिया (ती ११) ।

उत्कृष्टपु देखो उत्कृष्टडी (कुप्र ५५) ।
उत्कृष्टपु [दे] राशि, ढेर (दे १, ११०) ।

उत्कृष्टिगा } ली [दे] घूरा, कूडा डालने
उत्कृष्टिडिया } की जगह (उव ५६३ टी, विपा

उत्कृष्टडी } १, १, णाया १, २, दे १,
११०) ।

उत्कृष्ट सक [गम्] जाना, गमन करना ।
उत्कृष्ट (हे ४, १६२) ।

उत्कृष्ट वि [उत्कृष्ट] उत्तम, श्रेष्ठ (कुमा) ।
उत्कृष्टय न [उत्कृष्टित] अव्यक्त महा-व्वनि

(पएह १, १) ।
उत्कृष्ट वि [उत्कृष्ट] १ सन्मार्ग से अष्ट

पलनेवाला । २ किनारे से बाहर का । ३ न
चोरी (पएह १, ३) ।

उत्कृष्ट अक [उत् + कृञ्] अव्यक्त आवाज
करना, चिल्लाना । वक्र उत्कृष्टवमाण

(विपा १, ८, निर ३, १) ।
उत्कृष्टपु [उत्कृष्ट] १ समूह, राशि, ढेर

(हुमा, महा) । २ करण-विशेष, कर्मों की
न्यायादि वी बढ़ाना (विसे २५१४) । ३

मिल, एरएड के बीज को तरह जो अलग
नियम गया हो वह (राज) ।

उत्कृष्टपु [उत्] उपहार, भेट (दे १, ६६) ।

उत्कृष्टविपि नि [दे] उकेलाया हुआ,
गुनगया हुआ, 'राइणा उत्कृष्टियाइ चोल्-

माई, निहनियाइ ममन्तयो, जाव दिट्ठ

कथइ सुवएण, कथइ रूपय, कथइ मणि-
मोत्तियपवालाड' (महा) ।

उत्कृष्टिय वि [दे] श्वरोध-रहित किया
हुआ, घेरा उठाया हुआ (स ६३९) ।

उत्कृष्ट न [दे] राज-कुल में दातव्य द्रव्य,
राजा आदि को दिया जाता उपहार (वव

१ टी) ।
उत्कृष्टा ली [दे] घूस, रिशवत (दे १, ६२,

पएह १, ३, विपा १, १) ।
उत्कृष्टिय वि [दे] घूस लेकर कार्य करने-

वाला, घुसखोर (णाया १, १, श्रौप) ।
उत्कृष्टी ली [दे] प्रतिशब्द, प्रतिव्वनि (दे

१, ६४) ।
उत्कृष्टो वि [उत्कृष्टो] प्रखर, उत्कट (सण) ।

उत्कृष्टोय देखो उत्कृष्टोवण (भवि) ।
उत्कृष्टोया ली [उत्कृष्टोचा] १ घूस, रिशवत ।

२ मूर्ख को ठानने में प्रवृत्त घूर्त पुरुष का,
समीपस्थ विचक्षण पुरुष के भय से थोड़ी

देग के लिए अपने कार्य को स्थगित करना
(राज) ।
उत्कृष्टो ल पु [दे] धाम, धूप, गरमो (दे १,

८७) ।
उत्कृष्टोवण न [उत्कृष्टोपन] उद्दीपन, उत्तेजन,

'मयणुककोवण' (भवि) ।
उत्कृष्टोविअ वि [उत्कृष्टोपित] अत्यंत क्रुद्ध किया

हुआ (उप पृ ७८) ।
उत्कृष्टो सक [उत् + कृष्ट] १ रोना,

चिल्लाना । २ तिरस्कार करना । वक्र
उत्कृष्टोसत (राज) ।

उत्कृष्टोस वि [उत्कृष्टो] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य
(पचा १, २) ।

उत्कृष्टोस पु [उत्कृष्टो] १ प्रकर्ष, अतिशय,
'उत्कृष्टोसजहनेण अतमुहुत्ता चिय जियति' (जी

३८, श्रौप) । २ गर्व, अभिमान (सूअ १, २,
२, २६, सम ७१, ठा ४, ४—पत्र २७४) ।

उत्कृष्टोस वि [उत्कृष्टो] उत्कृष्ट, अधिक से
अधिक, 'सुरनेरइयणए ठिई उत्कृष्टोसा सागराणि

तितीस' (जी ३६), 'कोसतिगं च मणुस्सा

उत्कृष्टोसरीमाणेण' (जी ३२), 'तत्रो वियड-

तीयो पडिगाहित्तए, तं जहा—उत्कृष्टोसा,

मज्झिमा, जहएणा' (ठा ३, उव) ।

उत्कृष्टोस पु [उत्कृष्टो] १ कुरर, पक्षि-विशेष

(पएह १, १) । २ वि जोर से चिल्लाने-
वाला (राज) ।

उत्कृष्टोसण न [उत्कृष्टोशन] १ क्रन्दन । २
निर्मर्त्सन, तिरस्कार,

'उत्कृष्टोसणतज्जएणाटोणो
अवमाणहीलणाओ य ।
मुणिएणो मुणिएणपरभव

दढप्पहारिअ विसहति' (उव) ।
उत्कृष्टोसा ली [उत्कृष्टोशा] कोशानामक एक

प्रसिद्ध वेश्या (धर्म वि ६७) ।
उत्कृष्टोसिअ वि [उत्कृष्टोशित] भत्सित,

तिरस्कृत, दुतकारा हुआ (उप पृ ७८) ।
उत्कृष्टोसिअ वि [उत्कृष्टोसिअ] देखो उत्कृष्टोस =

उत्कृष्ट (कम्प; भत् ३७) ।
उत्कृष्टोसिअ पु [उत्कृष्टोसिअ] १ गोत्र-विशेष

का प्रवर्तक एक ऋषि । २ न गोत्र-निर्णय,
'थेरस्स ए अज्जवइरसेणस्स उत्कृष्टोपियोत्तस्स

(कम्प) ।
उत्कृष्टोसिअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किया

हुआ (पड्) ।
उत्कृष्टोसिया ली [उत्कृष्टोसिया] उत्कर्ष, आधिक्य

(भग) ।
उत्कृष्टोस देखो उत्कृष्टोस = उत्कृष्ट (विसे

५८७) ।
उत्कृष्ट सक [उत्कृष्ट] सीचना (सूअ २,

२, ५५) ।
उत्कृष्ट [उत्कृष्ट] १ सवन्ध (राज) । २ जैन

साधियों के पहनने के वस्त्र-विशेष का एक
श्राय (बृह १) ।

उत्कृष्ट देखो उत्कृष्ट = उत्कृष्ट (पाअ) ।
उत्कृष्टिअ वि [उत्कृष्टिअ] व्याप्त, भरा हुआ

(से १, ३३) ।
उत्कृष्ट सक [उत् + खण्डय] तोड़ना,

टुकड़ा करना । वक्र उत्कृष्टडत (नाट) ।
उत्कृष्टपु [दे] १ सघात, समूह । २ मणुड,

विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) ।
उत्कृष्टण न [उत्कृष्टण] उत्कर्त्तन, विच्छेदन

(विक्र २८) ।

उत्कृष्टिअ वि [उत्कृष्टिअ] खारिडत, छिन्न

(से ५, ४३) ।

उत्कृष्टिअ वि [दे] आक्रान्त, दबाया हुआ

(से १, ११२) ।

उद्दाण लो [दे] चूल्हा, चूल्ही, जिसपर रसोई पकाई जाती है (दे १, ८७)।

उद्दाण वि [अथद्रात] मृत, 'उद्दाणो भोदयन्मि चेद्दयाई वदामि' (सुख १, ३)।

उद्दाम वि [उद्दाम] १ स्वैर, स्वच्छन्द (पात्र)। २ प्रचण्ड, प्रखर, 'ता सजलजल-हृद्दामगहिरसदेण ताण त क्हद्द' (सुपा २३४)। ३ अव्यवस्थित (हे १, १७७)।

उद्दाम पु [दे] १ सघात, समूह। २ स्फुट, विषमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६)।

उद्दामिय वि [उद्दामित] लटकता हुआ, प्रलम्बित, 'तथ ए बहवे हृथी पासति सरणद्धवदवम्मिययुद्धिते उप्पीलियकच्छे उद्दामियधट्टे' (विपा १, २)।

उद्दाय अक [शुभ्] शोभना, शोभित होना, अच्छा मानुस देना। वक्क 'उववणेमु परहुय-ख्यपरिभितसकुलेमु उद्दायत रतईदगोव यथोयकाहन्निविलविणु' (याया १, १)। उद्दाइत (याया १, १ टी)।

उद्दार देखो उराल = उदार, 'देमि न कस्सवि जपइ उद्दारजणस्स विविहरयणाइ' (वज्जा १२०)।

उद्दरिअ वि [दे] १ युद्ध से पलायित, रण-द्रुत। २ उत्खात, उन्मूलित (पड्)।

उद्दाल सक [आ + छिद्] खीच लेना, हाथ से खीन लेना। उद्दालइ (हे ४, १२९, पड्, महा)। हेक्क उद्दालेउ (पि ५७७)।

उद्दाल पु [अवदाल] १ दबाव, अवदलन, 'तसि तारिसगसि सयणिज्जसि गगापुलिय-वालुअउद्दालसालिसए' (कम्प, याया १, १)। २ ब्रह्म-विशेष (जीव ३)। ३ अवसर्पिणी काल का प्रथम आरा—समय-विशेष (ज २)।

उद्दालिय वि [आच्छिन्न] खीना हुआ, खीच लिया गया (पात्र, कुमा, उप पु ३२३), 'दो सारवलिददावि हु तेहि उद्दालिया' (सुपा २३८)।

उद्दावणया लो [उपद्दावणा] उपद्रव, हैरानी (राज)।

उद्दाह पु [उद्दाह] १ प्रखर दाह। २ आग (ठा १०)।

उद्दाहग वि [उद्दाहक] आग लगानेवाला (परह १, ३)।

उद्दिट्ठ वि [उद्दिट्ठ] १ कथित, प्रतिपादित (विपा २, १)। २ निर्दिष्ट (दस)। ३ दान के लिए सकल्पित (अन्न, पानादि), 'णाय-पुत्ता उद्दिट्ठभत्त परिवण्णयति' (सूत्र २, ६)। ४ लक्षित (सूत्र २, ६)। ५ न उद्देश (पचा १०)। 'कड वि [कृत] साधु के उद्देश से बनाया हुआ, साधु के निमित्त किया हुआ (भोजनादि) (दस १०)।

उद्दिट्ठा लो [दे] जाँझा] तिथि-विशेष, अभावस्था (श्रौप)।

उद्दित्त वि [उद्दीप्त] प्रज्वलित (बृह १)।

उद्दिस सक [उद् + दिश्] आज्ञा करना। कर्म उद्दिसिज्जति (अणु ३)।

उद्दिस सक [उद् + दिश्] १ नाम निर्देश पूर्वक वस्तु का निरूपण करना। २ देखना। ३ सकल्प करना। ४ लक्ष्य करना। ५ अंगीकार करना। ६ सम्मति लेना। ७ समाप्त करना। ८ उपदेश देना। उद्दिसइ (वव २, ७)। कर्म 'दस अण्णयणा एक-सरणा दसमु चेव दिवसेमु उद्दिससति' (उवा)। कवक्क उद्दिसिज्जत (आवम)। सक्क 'गमो तासि समीव, पुच्छिय महुरवाणीए एक-कान्णं उद्दिसिऊण, कम्मो तुम्मे' (महा, वव ७), 'तदवसाणे य एक्का पवरमहिला बधुमइ उद्दिसस कुमारउत्तमगे अक्खए पक्खवइ (महा), उद्दिसिय (आचा २ १, अभि १०४)। हेक्क उद्दिसिउ, उद्दिसिउए (वव १० भा, ठा २, १)। प्रयो उद्दिसाविउए, उद्दिसावेउए (बृह १, कस)।

उद्दिसिअ देखो उद्दिट्ठ (आचा २)।

उद्दिसिअ वि [दे] उत्प्रेक्षित, वितर्कित (दे १, १०६)।

उद्दीरणा देखो उद्दीरणा, 'उद्दीरणउद्दयाण ज नाएत्त तय बोच्छ' (पच ५, ६८)।

उद्दीवण न [उद्दीपन] १ उत्तेजन। २ वि उत्तेजक (मै ५८, रभा)।

उद्दीवणज्ज वि [उद्दीपनीय] उद्दीपक, उत्तेजक, 'मयणुद्दीवणिज्जेहि विविहेहि भूसणेहि' (रभा)।

उद्दीविअ वि [उद्दीपित] प्रदीपित, प्रज्वलित (पात्र), 'वीयाए पक्खिविउ ततो उद्दीविमो जसणो' (सुर ६, ८८)।

उद्दुट्ठुय वि [उद्दुट्ठुत] पलायित (पज्ज ६, ७०)।

उद्दुट्ठुय वि [उपद्रुत] हैरान किया हुआ (व १३१)।

उद्देस देखो उद्दिस उद्देसइ (भवि)।

उद्देस पु [उद्देश] १ पठन विषयक गुर्वाज्ञा (अणु ३)। २ नाम का उच्चारण (सिदि १०६०)। ३ वाचन, सूत्र-प्रदान, सुत्रों के मूल पाठ का अध्यापन (पव १)।

उद्देस पु [उद्देश] १ नाम-निर्देश पूर्वक वस्तु निरूपण (विसे)। २ शिक्षा, उपदेश, 'उद्देसो पासगस्स एत्थि'। ३ व्यापदेश, व्यवहार (आचा)। ४ लक्ष्य। ५ अभिप्राय, मतलब (विसे)। ६ ग्रन्थ का एक अंश (गग १, १)। ७ प्रदेश, अथवा, 'सुवन्ति सुहियमभरा आवाअालगहिदा समदुद्धेसा' (से ५, १६, १, २०)। ८ गुरुप्रतिज्ञा, गुरु वचन (विसे)। ९ जगह, स्थान (कम्प)।

उद्देस वि [औद्देश] देखो उद्देसिय = औद्देशिक (पिड २३०)।

उद्देसण न [उद्देशान] १ पाठन, वाचना, अध्यापन, 'उद्दिसण वायएत्ति पाठणमा चेव एगट्ठा' (पचभा, परह २, ५)। २ अधिकारिता, योग्यता (ठा ४, ३)।

उद्देसणमाल पु [उद्देशनमाल] मतसूत्र के अध्यापन का समय (एदि २०६)।

उद्देसणा लो [उद्देशना] ऊपर देखो (पचभा)।

उद्देसिय न [औद्देशिक] १ भिक्षा का एक दोष, साधु के लिए भोजन-निर्माण। २ वि. साधु निमित्त बनाया हुआ (भोजन) (कर्म), 'उद्देसिय तु कम्म एत्थ उद्दिसस कीए जति' (पचा १७, ठा ६, अत)।

उद्देसिय वि [औद्देशिक] १ उद्देश-साम्यवी उद्देश से किया हुआ। १ विवाह आदि के उपलक्ष्य में किए गए जीवन में निर्मात्यों के भोजन की समाप्ति के अनन्तर बचे हुए वे खाद्य द्रव्य जिनको सर्वजातीय निपुणों को देने का सकल्प किया गया हो (पिड २२६)।

उक्तेविअ वि [उक्तेपित] जलाया हुआ
(घृण) भवि ।

उक्तेविअ वि [उक्तेपित] १ उक्तेपित,
उठाया हुआ (पात्र) । २ छिन्न, उखाडा
हुआ (दे १, १०५, १११) ।

उग अक [उत् + गम्] उदित होना ।
उगह (नाट) ।

उग (अप) वि [उद्गत] उदित (पिण) ।

उगाहिअ वि [दे] उक्तेपित, फेंका हुआ
(पड) ।

उगुणपन्न लीन [एकोनपञ्चाशत्] जनप-
चास, ४६ (सुज्ज १०, ६ टी) ।

उगुणीसा स्त्री [एकोनविंशति] उनीस,
१६ (सुज्ज १०, ६ टी) ।

उगुणुत्तर न [एकोनसप्तति] उनहत्तर, ६६,
'उगुणुत्तराह' (सुज्ज १०, ६ टी) ।

उगुणउइ स्त्री [एकोननवति] नवासी, ८६
(कम्म ६, ३०) ।

उगुसीइ स्त्री [एकोनाशीति] उनासी, ७६
कम्म ६, ३०) ।

उग अक [उद् + गम्] उदित होना ।
उगे (पिण) । वक्क उगगत, 'देव । पण्यज-
णकलाणकडुद्विसट्टणुगतमिह-(?हि) । राणु-
गारिणो' (धर्मा ५) ।

उगा सक [उद् + घाटय्] खोलना । उगह
(हे ४, ३३) ।

उगा वि [उग्र] १ तेज, तीव्र, प्रबल (पउम
८३, ४) । २ पु क्षत्रिय की एक जाति,
जिसने भगवान् आदिदेव ने आरक्षक-पद पर
नियुक्त की थी (ठा ३, १) । 'वई स्त्री
[उती] ज्योति-शास्त्र-असिद्ध नन्दा-तिथि
की रात (ज ७) । 'सिरि पु [श्रीक]
रानस वरा का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एक
लक्षेरा (पउम ५, २६४) । 'सेण पु [सेन]
मयुरा नगरी का एक यदुवशीय राजा (साया
१, १६; अत) ।

उगाठ मर [उन् + ग्रन्थ्] खोलना, गांठ
गोना । सक्क उगठिऊण (हम्मि १७) ।

उगाध वि [उद्गन्ध] अत्यन्त सुगन्धित
(गड) ।

उगाध } अक [उद् + गम्] उदय
उगाम } होना । उगण्डदि (सौ) (नाट) ।

उगमइ (वजा १६) । उगमेज (काल) ।
वक्क. उगमत, उगममाण (सुपा ३८,
पणण १) ।

उगम पु [उद्गम] १ उत्पत्ति, उद्भव,
'तत्थुगमो पसूई पभवो एमाई होति एगट्टा'
(राज) । २ उदय, 'सुलामो' (सुर ३,
२५०) । ३ उत्पत्ति से सम्बन्ध रखनेवाला
एक भिक्षा दोष (शोध ६५, १३० भा; ठा
१०) ।

उगमण न [उद्गमन] उदय (सिरि ४२८,
सुज्ज ६) ।

उगमिय वि [उद्गमित] उपाजित (निचू
२) ।

उगय वि [उद्गत] उत्पन्न, जात (आव
३) । २ उदित, उदय-प्राप्त (सुर ३, २४७) ।
३ व्यवस्थित (राज) ।

उगह सक [रचय्] रचना, बनाना, निर्माण
करना । करना । उगहइ (हे ४, ६४) ।

उगह सक [उद् + ग्रह] ग्रहण करना ।
उगहइ (भाग) । सक्क उगहिच्चा (भाग) ।

उगह पु [अवग्रह] इन्द्रिय द्वारा होनेवाला
सामान्य ज्ञान-विशेष (विसे) । १ अवधारण,
निश्चय (उत्त) । २ प्राप्ति, लाभ (आचू) ।
४ पात्र, भाजन (पचा ३) । ५ साध्वियों
का एक उपकरण (शोध ६६६, ६७६) । ६
योनिद्वार (बृह ३) । ७ ग्रहण करने योग्य
वस्तु (पणह १, ३) । ८ आश्रय, आवास
स्थान, वसति (आचा), 'आहापडिक्क उगह
ओगिन्दिता' (साया १, १) । ९ वह वस्तु,
जिसपर अपना प्रभुत्व हो, अधीन चीज (बृह
३) । १० देव या गुरु से जितनी दूरी पर
रहने का शास्त्रीय विधान है उतनी जगह,
मर्यादित भू-भाग, गुवादि की चारों तरफ की
शरीर-प्रमाण जमीन, 'अणुजाणह मे मिउ-
गह' (पडि) । 'णन, णतग न [णनन,
क] जैन साध्वियों का एक शुद्धाच्छादक
वस्त्र, जाधिया, लंगोट, 'छादतोगहणत'
(बृह ३) । 'पट्ट' पट्टण पुन [पट्ट, क]
देखो पूर्वोक्त अर्थ, 'नो कण्ड निगयाण
उगहणतग वा उगहण्टग वा धारित्तए वा
परिहरित्तए वा' (बृह ३) ।

उगह पु [अवग्रह] परोसने के लिए उठाया
हुआ भोजन (सूत्र २, २, ७३) ।

उगहण न [अवग्रहण] इन्द्रिय द्वारा होने-
वाला सामान्य ज्ञान, 'अत्थाण उगहण
अवग्रह' (विसे १७६) ।

उगाहिअ वि [रचित] १ निर्मित, विहित
(कुमा) ।

उगाहिअ वि [अवगृहीत] १ सामान्य रूप
से ज्ञात । २ परोसने के लिए उठाया हुआ
(ठा १) । ३ गृहीत । ४ आनीत । ५ मुख मे
प्रक्षिप्त, 'तिविहे उगहिए पणणत्ते,—ज च
उग्गिणहइ, ज च साहरइ, ज च आसगम्मि
पक्खवति' (वव २, ८) ।

उगाहिअ वि [दे] निपुण-गृहीत, अच्छी तरह
लिया हुआ (दे १, १०४) ।

उगा सक [उद् + गै] १ ऊँचे स्वर से गान
करना । २ बर्णन करना । ३ श्लाघा करना,
'उगाइ गाइ हसइ,

असबुडो सय करेइ कदप ।

गिहिकज्जचित्तो वि य,

ओसन्ने देइ गेणहइ वा' (उव) ।

वक्क उगायंत (सुर ८, १८६) । कवक्क
उगीयमाण (पउम २, ४१) ।

उगाठ वि [उद्गाठ] १ अति गाढ, प्रबल
(उप ६८६ टी, सुपा ६४) । २ स्वस्थ,
तन्दुस्त (बृह १) ।

उगामिय वि [उद्गमित] ऊपर उठाया हुआ,
ऊँचा किया हुआ (सुख १, १४) ।

उगायत देखो उग्गा ।

उग्गार } पु [उद्गार] १ वचन, उक्ति, 'ति
उग्गाल } पिसुणा जे ण सहति णिसुणा
पसुणुगारे' (गडड) । २ शब्द, आवाज,
ध्वनि, 'तियसरहपेक्षियणो णहदुडुहिबहल-
गज्जिउगारो' 'अहिताडियकसुगारकम्मणा-
पडिरवाहोओ' (गडड) । ३ डकार । ४ वसन,
श्रीकाई (नाट, कस), 'जिण्णालण-
डण्णतमयणधूमगारेण पिव केसकलावेण'
(स ३१३, निचू १०) । ५ जल का छोट
प्रवाह, 'उग्गालो छिछोली' (पात्र) । ६
रोमन्थ, पयुराना, 'रोमथो उग्गालो' (पात्र) ।
उग्गाल पु [दे उद्गाल] पान की पिचकारी
(पव ३८) ।

उद्धाव देखो उद्धा ।

उद्धवण न [उद्धावन] नीचे देखो (श्रा १) ।

उद्धावणा स्त्री [उद्धावना] १ प्रवल प्रवृत्ति ।

२ दूर गमन, दूर क्षेत्र में जाना (धर्म ३) । ३ कार्य की शीघ्र सिद्धि (वच १) ।

उद्धि देखो बुद्धि (षट्) ।

उद्धि स्त्री [दे] गाढी का एक अवयव, गुजराली 'उध' (सुज १०, ८ टी. ठा ३, २ टी-पत्र १३३) ।

उद्धिअ देखो उद्धिरिअ = उद्धृत (श्रा ४०, श्रौप, राय, वच १, श्रौप, पञ्च २८) ।

उद्धीमुह वि [ऊर्ध्वामुख] मुँह ऊँचा किया हुआ (चद ४) ।

उद्धुधलिय वि [दे] धुँधलाया हुआ (सण) ।

उद्धुधुणिय देखो उद्धुय (सण) ।

उद्धुधुम सक [पू] पूर्ण करना, पूरा करना ।

उद्धुमइ (हे ४, १५६) ।

उद्धुमा सक [उद् + ध्मा] १ श्रावाज करना ।

२ जोर से धमनी को चलाना । उद्धुमाइ उद्धु-
माइ (षट्, प्राप्ता) ।

उद्धुमाइअ वि [उद्धुमापित] उठा किया हुआ, निर्वापित (से १, ८) ।

उद्धुमाय वि [दे] १ परिपूर्ण, 'मायाइ उद्धु-
माया' (कुमा), 'पडिहल्यमुद्धुमाय आहिरेइय
च जाण आउएणे' (एवि) । २ जन्मत,
'मअरदरमुद्धुमायमुहलमहमर' (से ६, ११) ।

उद्धुधुय वि [उद्धुधूत] १ पवन से उडा हुआ
(से ७, १४) । २ प्रसूत, फेला हुआ, 'गधुद्धु-
याभिरामे' (श्रौप) । ३ प्रकम्पित, 'वाउद्धुय-
विजयवेजयती' (जीव ३) । ४ उलकट, प्रवल
(सम १३७) । ५ व्यक्त, प्रकट (कम्प) ।

उद्धुधुर वि [उद्धुधुर] १ ऊँचा, उच्च, उद्धुर
उच्च' (प्राप्ता) । २ प्रचण्ड, प्रवल (सुर ३, ३६,
१२, १०६) ।

उद्धुधुवत } देखो उद्धू
उद्धुधुवामाण }

उद्धुधुसिय वि [उद्धुधुवित] १ रोमाञ्च,
'अन्नोन्नपिणहि हसिउद्धु सिणहि खिण्पमाणो
य' (उव) । २ वि रोमाञ्चित, पुसकित (दे
१, ११५, २, १००), 'उद्धुधुसियरोमकूवो
सोयलमनिनेण सकुडयगतो' (सुर २, १०१),
'उद्धुधुसियकेसरसठ' (महा) ।

उद्धू सक [उद् + धू] १ कँपाना,
चलाना । २ चामर वगैरह बीजना, पखा
करना । कवक उद्धुधुवत, उद्धुधुवामाण
(पचम २, ४०, कम्प) ।

उद्धुधुणिय देखो उद्धुधुय (सण) ।

उद्धुधूद (शौ) देखो उद्धुधुय (चार ३५) ।

उद्धुधूल सक [उद् + धूलय्] १ व्याप्त
करना । २ धूलि लगाना । उद्धुधुलेइ (हे
४, २६) ।

उद्धुधूलण न [उद्धुधूलन] धूलि को अङ्ग
पर लगाना,

'जारमसाणसमुभवभूइहुफससिजिरगोए ।
एण समप्यइ एवकावालिआइ उद्धुधूलणारभो ।'
(गा ४०८) ।

उद्धुधूलिय वि [उद्धुधूलिन] १ धूलि से
लपेटा हुआ । २ व्याप्त, 'तिमिरोद्धुधूलिअयवण'
(कुमा) ।

उद्धुधुवणिया स्त्री [उद्धुधुवणिका] धूप देना,
'केवि हु बिरालतलयपुरीसमीसेहि गुणुलाईहि ।
उव्वरियम्मि खिवित्ता उद्धुवणिय पयच्छति ।'
(सुर १४, १७४) ।

उद्धुधुविअ वि [उद्धुधुवित] जिसको धूप
किया गया हो वह (विक्र ११३) ।

उद्धोस पु [उद्धर्षे] उल्लास, ऊँचा होना
(सट्टि ६५), 'ज ज इह सुहममुद्धोए चित्तिजइ
त सच्च रोमुद्धोस जणेइ मह अम्मो' (सुवा
६५) ।

उन्न न [ऊर्ण] ऊन, भेड या बकरी के रोम ।
'मय वि [मय] ऊन का बना हुआ,
'गोवात्तियाण विद नच्चावड फारमुत्तियाहार ।
उन्नमयवासनिवसणपीणुन्नययणहराभोग ॥'
(सुवा ४३२) ।

उन्न (अप) वि [विषण्ण] विवाद-प्राप्त,
खिन्न (षट्) ।

उन्नइ देखो उण्णइ (काल, सुवा २५७, प्राप्
२८, सार्ध ३४) ।

उन्नइज्जमाण देखो उन्नी ।

उन्नइय वि [उन्नीत] ऊँचा लिया हुआ (पचम
१०५, ५७) ।

उन्नद सक [उद् + नन्द] अभिनन्दन करना ।
कवक 'हियमालासहस्सेहि उन्नदिज्जमाणे'
(कम्प) ।

उन्नय देखो उण्णय (सुवा ४७६, सम ७१,
कम्प) ।

उन्ना देखो उण्णा । 'मय वि [मय] ऊन
का बना हुआ (सुवा ६४१) ।

उन्नाडिय न [उन्नाटित] हर्ष-द्योतक श्रावाज
(स ३७६) ।

उन्नाम पु [उन्नाम] १ ऊँचाई । २ अभिमान,
गर्व (सम ७१) ।

उन्नामिअ वि [उन्नामित] ऊँचा किया हुआ
(प्राप्ता, महा, स ३७७) ।

उन्नालिअ वि [दे] देखो उण्णालिअ, 'उग्ग-
लिअ उन्नामिअ' (प्राप्ता) ।

उन्नाह पु [उन्नाह] ऊँचाई (प्राप्ता) ।

उन्निअ देखो उण्णिअ = श्रौणिक (श्रौप
७०५) ।

उन्निक्ख सक [उन्नि + रत्त] उखाडना, उन्मू
लन करना । भवि उन्निक्खत्तामि (सुप
२, १, ६) । क उन्निक्खेयठम (सुप ३,
१, ७) ।

उन्निक्खमण न [उन्निक्कमण] दीक्षा श्रेष्ठ
कर फिर गृहस्थ होना, साधुपन छोडकर फिर
गृहस्थ बनना (उप १३० टी, ३६६) ।

उन्नी देखो उण्णी । कवक उन्नइज्जमाण
(कम्प) ।

उन्नाह (अप) पु [उण्णमाल] शीघ्र अतु
(भवि) ।

उपक्खर न [उपस्कर] घर का उपकरण
(उत्त ६, ६) ।

उपत न [उपान्त] १ पिछला या पीछे का
भाग । २ वि समीपस्थ (गा ६६३) ।

उपरि } देखो उवरि (विते १०२१, यट्) ।
उपरि }

उपरिइ देखो उवरिइ (पट्) ।

उपवज्जमाण देखो उववाय = उप + वादय् ।

उपसप्य देखो उवसप्य । उपमप्यइ (पट्) ।
सक उपसपिय (नाट) ।

उपाणहिय पुत्ती [उपानत्] कृता, 'अन्न-
दियो जपाएपाएहिप पुत्तमाच्छा' (सुवा
३६२), 'सह ते निउपाणहियाजवि वाहिम्म'
(सुवा ३६२) ।

उत्प देखो ओत्प = अर्धम् । उत्पेइ (पि १०४,
इ १, २६६) ।

उग्घाड सक [उद् + घाटय्] १ खोलना ।
२ प्रकट करना । ३ बाहर करना । उग्घाडइ
(हे ४, ३३) । उग्घाडए (महा) । सक
उग्घाडिऊण (महा) । कृ उग्घाडिअव्व
(था १६) । कवक उग्घाडिऊजत (से ५,
१२) ।

उग्घाड पु [उद्घाट] प्रकट, प्रकाश, 'किंतु
कमो बहुएह उग्घाडो नियकम्माण' (सिरि
५२८) ।

उग्घाड देखो उग्घाड = उद् + घाटय् । हेकृ,
'त जिणहुरस्स दार केणवि नो सत्तिकयं
उग्घाड' (सिरि ५२८) ।

उग्घाड वि [उद्घाट] १ खुला हुआ,
अनाच्छादित (पउम ३६, १०७) । २ थोडा
बन्द किया हुआ, 'उग्घाडकवाडउग्घाडणए'
(भाव ४) । ३ व्यक्त, प्रकट । ४ परिपूर्ण,
अनून, 'एत्थतरम्मि उग्घाडपोरिसोसुयगो
वलो पत्तो' (सुपा ६७) ।

उग्घाडण न [उद्घाटन] १ खोलना (भाव
४) । २ बाहर करना, बाहर निकालना
(उप ३ १६७) ।

उग्घाडणा स्त्री [उद्घाटना] ऊपर देखो
(भाव ४) ।

उग्घाडिअ वि [उद्घाटित] १ खुला हुआ ।
२ प्रकटित, प्रकाशित (से २, ३७) ।

उग्घायण न [उद्घाटन] १ नाश, विनाश
(आवा) । २ पूज्य-स्थान, उत्तम जगह । ३
सरोवर में जाने का मार्ग (आवा २, ३) ।

उग्घार पु [उद्घार] सिञ्चन, छिडकाव,
'विणितरहिल्लघारं निवडिओ घरणिवट्टे'
(से ५६८) ।

उग्घिट्टु वि [उद्घट्ट] सघृष्ट, 'नगिरसुर-
उग्घिट्टु' विरोडुण्डिपायारविदे' (सहस्र ४,
से ६, ८०) ।

उग्घिट्टु वि [उद्घट्ट] घोषित, उद्घोषित (सुर
१०, १४, सण), 'अमरवह्णुडुजयजयारव'
(पत्ता) ।

उग्घिट्टु वि [दे] उज्ज्वल, उम, दूरीकृत,
विनाशित (दे १, ६६), 'उरमालिखेणीयुह-
पउमउग्घिट्टुमहिरमा जयअमुआ' (से ११,
१००) ।

उग्घुस सक [मृज्] साफ करना, मार्जन
करना । उग्घुसइ (हे ४, १०५) ।

उग्घुस सक [उद् + घुष्] देखो उग्घोस ।
सक उग्घुसिअ (नाट) ।

उग्घुसिअ वि [मृष्ट] मार्जित, साफ किया
हुआ (कुमा) ।

उग्घोस सक [उद् + घोषय्] घोषणा
करना, डिढोरा पिटवाना, जाहिर करना ।
उग्घोसेह (विपा १, १) । वक उग्घोसेमाण
(विपा १, १, णाया १, ५) । कवक,
उग्घोसिऊमाण (विपा १, २) ।

उग्घोस पु [उद्घोष] नीचे देखो (स्वप्न
२१) ।

उग्घोसणा स्त्री [उद्घोषणा] डुंगी पिटवाना,
डिढोरा पिटवा कर जाहिर करना (विपा
१, १) ।

उग्घोसिय वि [मार्जित] साफ किया हुआ,
'उग्घोसियसुनिम्मल व आयसमडलतल' (परह
२, ५) ।

उग्घोसिय वि [उद्घोषित] जाहिर किया
हुआ, घोषित (अवि) ।

उच्ण वि [दे] पूर्ण, भरपूर (पड्) ।

उच्चिय वि [उच्चित] योग्य, लायक, अनुसूच
(कुमा, महा) । ण्णु वि [ञ्] विवेकी
(उप ७६८ टी) ।

उच्च न [दे] नाभि-तल (दे १, ८६) ।

उच्च १ वि [उच्च, ञ्, उच्चैस्] १ ऊँचा
उच्चअ (कुमा) । २ उत्तम, उत्कृष्ट (हे २,
१५४, सूअ १, १०) । उच्चद वि
[उच्चन्दस्] स्वैर, स्वच्छाचारी (परह
१, २) । णागरी देखो 'नागरी (कप्प) ।

उच्च न [स्व] १ ऊँचाई (सम १२, जी २८) ।
२ उत्तमता (ठा ४, १) । उच्चभया, उच्चभ-
यय पु [उच्चभूतक] जिससे समय और
वेतन का इकरार कर यथासमय नियत काम
लिया जाय वह नौकर (राज, ठा ४, १) ।

उच्चरिया स्त्री [उच्चरिका] लिपि-विशेष
(सम ३५) । उच्चणय न [उस्थापनक]
लम्बगोलाकार वस्तु-विशेष, 'घरणस्स ए
अणुणारस्स गोवाए अयमेयाव्वे तवव्वलावन्ने
होत्था, से जहानामए करणगोवा इवा कुडिया-
गोवा इवा उच्चयव्वणए इवा' (अनु) । उच्चिया

स्त्री [उच्चिका] ऊँचा-नीचा करना, जैसे-
तैसे रखना ।

'कह तपि तुइ ए णाअ जह सा
आसदिआए बहुआए ।

काअण उच्चवचिअं तुह
दसणलेहला पडिआ'
(गा ६६७) ।

उच्चय पु [उच्च] प्रशंसा, श्लाघा (उप ७२८
टी) । देखो उच्च ।

उच्चइअ वि [उच्चयित] एकत्रीकृत, इकट्ठा
किया हुआ (काल) ।

उच्चइय वि [दे] ऊँचा चढाया हुआ (हम्मोद
२८) ।

उच्चतय पु [उच्चन्तग] दन्त-रोग, दाँत में
होनेवाला रोग-विशेष (राज) ।

उच्चपिअ वि [दे] १ दीर्घ, लम्बा, आयत (दे
१, ११६) । २ आक्रान्त, दबाया हुआ, रोडा
हुआ, 'सोस उच्चपिअ' (तट्टु) ।

उच्चडिअ वि [दे] उत्क्षिप्त, ऊँचा फेंका हुआ
(दे १, १०६) ।

उच्चत्त वि [उच्चत्त] पतित, व्यक्त (पाअ) ।

उच्चत्तवरत्त न [दे] १ दोनों तरफ का स्थूल
भाग । २ अनियमित भ्रमण, अस्थवस्थित
विवर्तन (दे १, १३६) । ३ दोनों तरफ से
ऊँचा-नीचा करना (पाअ) ।

उच्चरथ वि [दे] दृढ, मजबूत (दे १, ८७)

उच्चदिअ वि [दे] मुषित, चुराया हुआ
(पड्) ।

उच्चप्प वि [दे] आरूढ, ऊपर बैठा हुआ (दे
१, १००) ।

उच्चय सक [उत् + त्यज्] त्याग देना
छोड़ देना । कृ उच्चयणिज्ज (पउम ६६
२८) ।

उच्चय पु [उच्चय] १ समूह, राशि, 'रयणो-
च्चय विसाल' (सुपा ३४, कप्प) । २ ऊँचा
ढेर करना (भग ८, ६) । ३ नीची, स्त्री के
कटी-त्रल की नाडी (पाअ) । वय पु
[उच्चय] वन्ध-विशेष, ऊपर ऊपर रज कर
चीजो को बाँधना (भग ८, ६) ।

उच्चय पु [अउच्चय] इकट्ठा करना, एकी-
करण (दे २, ५६) ।

उप्पाड सक [उत् + पाटय्] १ ऊपर उठाना। २ उखाडना, उन्मूलन करना। उप्पा-डेह (परह १, १, म ६५, काल)। कृ उप्पाड-डणिल्ल (सुपा २४६)। सक उप्पाडिय (नाट)।

उप्पाड सक [उत् + पादय्] उत्पन्न करना। सक उप्पाडिकण (विसे ३३२ टी)।

उप्पाड पु [उत्पाट] उन्मूलन, उत्खनन, 'नयणोप्पाडो' (उप १४६ टी, ६८६ टी)।

उप्पाडण न [उत्पाटन] १ उत्थापन, ऊपर उठाना। २ उन्मूलन, उत्खनन (स २६६, राज)।

उप्पाडिय वि [उत्पाटित] १ ऊपर उठाना हुआ (पात्र, प्राह)। २ उन्मूलित (आक)।

उप्पाडिय वि [उत्पादित] उत्पन्न किया हुआ, 'उप्पाडियणाराण खदगसीसाण तेसि नमो' (भाव १३)।

उत्पादअ वि [उत्पादक] उत्पन्न कर्ता (प्रथी १७)।

उत्पादीअमाण देखो उत्पाय = उत् + पादय्।

उत्पाय सक [उत् + पादय्] उत्पन्न करना, बनाना। उप्पाएहि (काल)। वक्क उप्पाएंत, उत्पायत (सुर २, २२, ६, १३)। सक उप्पाएत्ता (भग)। हेक्क उप्पाइत्ता, उप्पाएउ, उप्पाएत्तए (राज, पि ४६५, शाया १, ४)। कवक्क उत्पादीअमाण (शौ) (नाट)।

उत्पाय पुन [उत्पात] १ उत्पत्तन, ऊर्ध्व-गमन, 'न स्रग गतुमणा सिक्खति नहमणुप्पाय' (सुपा १८०)। २ आकस्मिक उपद्रव, 'पव-हण च पासइ समुदमज्जे उप्पाएण छम्मासे भमत ताहे अरोए त उत्पाय जवसामिय' (महा)। ३ आकस्मिक उपद्रव का प्रतिपादक शास्त्र, निमित्त-शास्त्र-विशेष (ठा ६, सम ४७, परह १, ४)। 'निन्नाय पु [निपात] चढना और उतरना (स ४११)।

उत्पाय पु [उत्पाद] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव (सुपा ६, कुमा)। 'पुव्वय पु [पर्वत] एक प्रकार के पर्वत, जहां आकर कई व्यन्तर-जातीय देव-देविया कीडा के लिए विचिन प्रकार के शरीर बनते हैं (सम ३३, जीव ३)। 'पुव्व न

[पूर्व] प्रथमपूर्व, श्रव्याश-विशेष, वारहवें जैन अङ्ग-ग्रन्थ का एक भाग (सम २६)।

उत्पायग वि [उत्पादक] १ उत्पन्न करने-वाला। २ पु त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष, कीट-विशेष (वव ८)।

उत्पायण न [उत्पादन] १ उत्पादन, उपार्जन (ठा ३, ४)। २ वि उत्पादक, उपार्जक (पउम ३०, ४०)।

उत्पायणया } स्त्री [उत्पादना] १ उपार्जन
उत्पायणा } उत्पन्न करना। जैन साधु की
मिक्षा का एक दोष (ओध ७४६, ठा ३, ४,
पिराड १)।

उत्पायय वि [उत्पादक] उत्पन्न-कर्ता (सुख २, २५)।

उत्पाळ सक [वथ्] कहना, बोलना। उप्पा लइ (हे ४, २)। उप्पालसु (कुमा)।

उत्पाव सक [उत् + प्लावय्] १ लैयाना, तैराना। २ कुदाना, उठाना। उप्पावेइ (हे २, १०६)। कवक्क उत्पियमाण (उवा)।

उत्पास सक [उत्प + अस्] हँसी करना। उप्पासिति (सुख १, १६)।

उत्पाहल न [दे] उल्लठा, उत्सुकता (पात्र)।

उत्पि सक [अर्पय्] देना। उत्पिउ (कप्प)।

उत्पि अ [उपरि] ऊपर, 'कहि ए भवे। जोइ-सिआ देवा परिवसति ? गोयमा। उत्पि दीव-समुदाए इमीसे रयणय्माए पुढवीए' (जीव ३, शाया १, ६, ठा ३, ४, श्रौप)।

उत्पिगलिआ स्त्री [दे] हाथ का मध्य भाग, करोत्सग (दे १, ११८)।

उत्पिजल न [दे] १ सुरत, सभोग। २ रज, ध्रुवी। ३ अपकीर्ति, अपयश (दे १, १३५)।

उत्पिजल वि [उत्पिजल] अति-आकुल, व्याकुल (कप्प)।

उत्पिजल अक [उत्पिजलय्] आकुल की तरह आचरण करना। वक्क उत्पिजलमाण (कप्प)।

उत्पिच्छ [दे] देखो उत्पित्थ, 'आहित्थ उत्पिच्छ च आजल रोसभरिय च', 'भीयं दुप-मुप्पिच्छमुत्ताल च कमनो मुणोयव्व' (जीव ३), 'हत्थो अह तसस सवड्डुत्तो पहाविग्रो आय-रुप्पिच्छो', 'रत्तससंत्तपि आयनप्पिच्छ (पउम

८, १७५, १२, ८७), 'उत्पिच्छमथराईहे' (भत्त ११६)।

उत्पिण देखो उत्पण। वक्क उत्पिणित (सुपा ११)।

उत्पित्थ वि [दे] १ अस्त, भीत (दे १, १२६, से १०, ६१, स ५७४, पुष्क ४४३, गउड), 'कि कायव्वविमूढा सरणविहणा भुप्पित्था' (सुर १२, १६०)। २ कुपित, क्रुद्ध। ३ विधुर, आकुल (दे १, १२६, पात्र)।

उत्पित्थ वि [दे] स्वास-युक्त (गीत) (राय ७७ टी)।

उत्पिय सक [उत् + पा] १ आस्वादन करना। २ फिर-फिर स्वास लेना। वक्क उत्पियत (परह १, ३—पथ ५५, राज)।

उत्पिय वि [अर्पित] अर्पण किया हुआ (हे १, २६६)।

उत्पियण न [उत्पान] फिर-फिर स्वास लेना (राज)।

उत्पियमाण देखो उत्पाव।

उत्पिलण न [उत्प्लान] लापना (पिंड ४२२)।

उत्पिलव्व देखो उत्पाव। उत्पिलावेइ। वक्क उत्पिलव्वत, 'जे भित्तव्व सरण नाव उत्पि-लावेइ, उत्पिलावत वा साइज्जइ' (वित्रु १८)।

उत्पीड पु [दे-उत्पीड] समूह, राशि (मि ५, ३७, ८, ३)।

उत्पीडण न [उत्पीडन] १ कस कर वाचना। २ दवाना (से ८ ६७)।

उत्पील सक [उत् + पीडय्] १ कम कर वाचना। २ उठवाला, 'सरण वा एाव उप्पीलावेज्जा (आत्ता २, ३, १, ११)। उप्पीलावेज्जा (पि २४०)।

उत्पील पु [दे] १ सघात, समूह (दे १, १२६, सुपा ६१, सुर ३, ११६, वज्जा ६०, पुष्क ७३, धम्म १२ टी), 'हुयामणा व्ह सव्व जालुप्पीलो विरासए' (महा)। २ त्यपुट, विपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६)।

उत्पीलण न [उत्पीडन] पीडा, उपद्रव (स २७०)।

उत्पीलिय वि [उत्पीडित] कस कर वाधा हुआ, 'उत्पीलियविचपट्टगहियाउत्पहरणा' (परह १, ३, विपा १, २)।

उज्जरिअ वि [दे] देवी नजर से देखा हुआ ।
 २ विक्षित । ३ क्षित, फँका हुआ । ४ परि-
 त्यक्त, उज्जित (दे १, १३३) ।
 उज्जल वि [दे] प्रबल, बलिष्ठ (पड्) ।
 उज्जल्लिअ वि [दे] १ प्रक्षित, फँका हुआ ।
 २ विक्षित (पड्) ।
 उज्जस पु [दे] उद्यम, उद्योग, प्रयत्न (दे
 १, ६५) ।
 उज्जसिअ वि [दे] उज्जृष्ट, उत्तम (पड्) ।
 उज्जसा देखो अउज्जसा (उप पृ ३७४) ।
 उज्जसाय पु [उपाध्याय] विद्या-दाता गुरु,
 शिक्षक, पाठक (महा. सुर १, १८०) ।
 उज्जसासि वि [उज्जसासिन्] कमकनेवाला,
 देशीयमान, 'ककणुज्जसासिहत्या' (रभा) ।
 उज्जसासिअ न [दे] १ वचनीय, लोकापवाद ।
 २ वि निवन्दीय । ३ कथनीय (दे ३, ५५) ।
 उज्जसाय वि [उज्जसाय] १ परित्यक्त, विमुक्त
 (कुमा) । २ भिन्न (भाष ४) । ३ न परित्याग
 (भाष) । ४ पु [क] एक सार्थवाह का
 पुत्र (विपा १, २) ।
 उज्जसाय वि [दे] १ शुष्क, सूखा हुआ । २
 निम्नोक्त, नीचा किया हुआ (पड्) ।
 उज्जसाय स्त्री [उज्जसाय] एक सार्थवाह-
 फली (साया १, ७) ।
 उड पुत्री [उड्] ऊँट, करम (विपा १, ६,
 ह २, ३४; उवा) । स्त्री उट्टी (राज) ।
 उट्टार पु [अवतार] घाट, तीर्थ, जलाशय
 या घाट,
 'अह ते तुरउट्टारे बहुभङ्गमयरे सुसत्यकमलचणे ।
 सोलामति अहिच्छ समरतलाए कुमाराया'
 (पउम ६८, ३०) ।
 उट्टिया देखो उट्टिया (धर्मस ७८) ।
 उट्टिय } वि [औष्टिक] ऊँट सम्बन्धी । ऊँट
 उट्टिय } के रोमों को बना हुआ (ठा ५, ३,
 श्लोक ७-६) । ३ पु श्रुत्य, नौकर (कुमा) ।
 ४ घटा, घट (उवा) ।
 उट्टिया स्त्री [उट्टिया] घटा, घट, कुम्भ (विपा
 १, ६, उवा) । 'मसण पु [श्रमण] प्राज्ञी-
 निरुमत वा साधु, जो बड़े घटे में बैठ कर
 तपस्या करता है (श्लोक) ।
 उट्टिय [उत् + स्या] उठना, खडा होना ।

उट्टइ (हे ४, १७, महा) । उट्टेइ (पि ३०६) ।
 उट्ट उट्टत (गा ३८२, सुपा २६६), उट्टित
 (सुर ८, ४३, १३, ५३) । सक् उट्टाय,
 उट्टित्तु, उट्टित्ता, उट्टेत्ता (राज, प्राचा; पि
 ५८२) । हेक् उट्टित्त (उप पृ २५८) ।
 उट्ट वि [उत्थ] उत्थित, उठा हुआ (श्लोक ७०
 उवा) । 'बइसअप [ोपवेश] उठ-बैठ (हे ४,
 ४२३) ।
 उट्ट पु [ओष्ठ] श्रोत्र, अघर (सम १२५, सुपा
 ५२३) ।
 उट्ट पु [उट्ट] जलचर जल-विशेष (सूअ १,
 ७, १५) ।
 उट्टण देखो उट्टण (धर्मवि १३०) ।
 उट्टभ सक [अव + स्तम्] १ आलम्बन
 देना, सहारा देना । २ आक्रमण करना
 कर्म उट्टभइ (हे ४, ३६५) । सक् 'उट्ट-
 भिया एगया कार्य' (प्राचा १, ६, ३,
 ११) ।
 उट्टवण न [उत्थापन] उत्थापन, ऊँचा करना,
 उठाना (श्लोक २१४, दे १, ८२) ।
 उट्टविय वि [उत्थापित] उत्थापित, उठाय
 हुआ, खडा किया हुआ, 'सा सणिय उट्टविया
 भणइ किमागमणकारण सुणहे' (सुर ६,
 १६०) ।
 उट्टा देखो उट्ट = उत् + स्या (प्राचा) ।
 उट्टा स्त्री [उत्था] उत्थान, उठान, 'उट्टाए
 उट्टेइ' (साया १, १, श्लोक) ।
 उट्टाइ वि [उत्थाइन्] उठनेवाला (भाचा) ।
 उट्टाइअ वि [उत्थित] १ जो तैयार हुआ हो,
 प्रसुण (पउम १२, ६६) । २ उत्पन्न, उत्थित
 (स ३७६) ।
 उट्टाइअ देखो उट्टाविअ (उवा) ।
 उट्टाण न [उत्थान] १ उठान, ऊँचा होना
 (उव), 'ममसलिलोहिं घडासु अ वोच्छिजइ
 पसरिअ महिरउट्टाण' (स १३, ३७) । २
 उद्भव, उत्पत्ति (साया १, १४) । ३ आरम्भ,
 प्रारम्भ (भग १५) । ४ उदसन, वाहर निक-
 लना (एदि) । 'सुय न [श्रुत] शाब-विशेष
 (एदि) ।
 उट्टाय देखो उट्ट = उत् + स्या ।
 उट्टाव सक [उत् + स्थापय] उठाना ।
 उट्टावेइ (महा) ।

उट्टावण देखो उट्टवण (कच) ।
 उट्टावण देखो उवट्टावण, 'पव्वावणविहिउट्टा-
 वण च अज्जाविहि निरवसेस' (उव) ।
 उट्टावणा देखो उवट्टावणा (भत २५) ।
 उट्टाविअ वि [उत्थापित] १ उठाय हुआ,
 खडा किया हुआ (नाट) । २ उत्पातित, 'तुम,
 उट्टाविअो कली एस' (उप ६४८ टी) ।
 उट्टित्तु }
 उट्टित्तु } देखो उट्ट = उत् + स्या ।
 उट्टित्तु }
 उट्टिय वि [उत्थित] उत्थित, खडा हुआ (सुर
 ३, ६६) । २ उत्पन्न, उद्भूत (परह १,
 ३), 'विहीसिया कावि उट्टिया एस' (सुपा
 ५४१) । ३ उदित, उदय-प्राप्त, 'उट्टियम्मि
 सुरे' (अणु) । उचत, उद्युक्त (भाचा) ।
 ५ उदसित, वाहर निकला हुआ (श्लोक ६५
 भा) ।
 उट्टिर वि [उत्थात्] उठनेवाला (सण) ।
 उट्टिसिय वि [उट्टघुपित] पुलकित, रोमा-
 ङ्घित (श्लोक, कुमा) ।
 उट्टीअ (अप) देखो उट्टिय (पिंग) ।
 उट्टुअ } अक [अव + टीव] शुकना ।
 उट्टुअ } उट्टुअति, उट्टुअ (पि १२०),
 उट्टुअह (भग १५) । सक् उट्टुअइत्ता
 (भा १५) ।
 उट्टिअ (अप) देखो उट्टिय (पिंग—पत्र
 ५८१) ।
 उट्ट पुन [कुट] घट, कुम्भ,
 'पडिबवक्खमणपुणे लावणएउडे अणणगअकुंभे ।
 पुरिससअहिअअपरिए कीस थणती थये बहसि'
 (गा २६०)
 उट्ट पु [कुट] समूह, राशि, 'सप्पी जहा
 अडउड भत्तार जो विहिउह' (सम ११) ।
 उट्ट देखो पुड (उवा, महा, गउड; गा ६६०,
 सुर २, १३, प्रासू ३६) ।
 उट्टंअ पुं [उट्टंअ] एक ऋषि, तापस-विशेष
 (निहू १२) ।
 उडव वि [दे] क्षित, लिपा हुआ (पड्) ।
 उडज } पु [उटज] ऋषि-आश्रम, पर्या-
 उडय } शाल, पत्ता स बना हुआ घर (धमि
 उडव } ११, प्रति ८५, अमि ३७, स

उब्बुक्क सक [उद् + युक्] बोलना, कहना।
उब्बुक्कइ (हे ४, २)।

उब्बुक्क न [दे] ? प्रलपित, प्रलाप। २
सकट। ३ बलाकार (दे १, १२८)।

उब्बुड अक [उद् + ब्रुड] तेरना।

उब्बुड } पु [उद् + ब्रुड] तेरना। °निबुड,
उब्बुड } °निबुडुण न [निबुड, ण]

उभउभ करना (पएह १, ३, उप १२८ टी)।
उब्बुडु वि [उद् + ब्रुडित] उन्मग्न, तीर्ण (गा
३७, स ३६०)।

उब्बुडुण न [उद् + ब्रुडन] उत्पज्जन (कप्पू)।

उब्बुह अक [उत् + क्षुम्] संक्षुब्ध होना।
उब्बुहइ (प्राक् ७५)।

उब्बूर वि [दे] ? अधिक, ज्यादा। २ पुं
सघात, समूह। ३ स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश
(दे १, १२६)।

उब्भ सक [ऊर्ध्व्य] ऊँचा करना, खडा
करना। उब्भेउ (वज्जा ६४), उब्भेह
(महा)।

उब्भ देखो उड्ड (हे २, ५६, सुर २, ६,
षड्)।

उब्भड पु [उद् + भाण्ड] ? उत्कट भाँड,
बहुष्पा, निलंब हंडा, उग्र विदूषक,
'खरजति कह जाएसि

देहागारा कहिति से हदि।

छिकोवण उब्भडो

णीयासि दाब्बासहावो ।' (ठा ६ टी)।

२ न गाली, कुलित-वचन, 'उब्भडवयण—'
(भवि)।

उब्भत वि [दे] ग्लान, बीमार (दे १, ६५,
महा)।

उब्भत वि [उद् + भ्रान्त] ? आकुल, व्याकुल,
खिन्न (दे १, १४३)।

'अवलंबह मा सकह ए इमा गहलविआ
परिब्भमइ । अत्यक्कगज्जिउब्भतहित्थहिअआ
पडिअजाआ' (गा ३८६), 'भवमएणुब्भतमा-
एसा अम्हे' (सुर १५, १२३)। २ मूर्च्छित
(से १, ८)। ३ भ्रांतिपुक्त, भौचक्का, चकित
(हे २, १६४)।

उब्भत पु [उद् + भ्रान्त] प्रथम नरक-पृथिवी
का चौथा नरकेन्द्रक—एक नरक स्थान
(देवेन्द्र ३)।

उब्भग वि [दे] गुरिठत व्याप्त, 'तिमि-
रोब्भगरिआए' (दे १, ६५, नाट)।

उब्भज्जि ली [दे] कोद्वन-समूह (राज)।

उब्भड वि [उद् + भट] ? प्रबल, प्रचण्ड,
'उब्भडपवएणक पिरजयप्पडागाइ अइपयड'
(सुपा ४६), 'उब्भडकल्लोलभीसएणारेवे'
(एमि ४)। २ भयकर, विकराल (भग ७,
६)। ३ उद्वत, आडवरी (पात्र),
'अइरोसो अइतोसो अइहासो
दुजणेहि सवासो।

अइउब्भडो य वेसो पचवि

गद्यपि लहुअति ।' (घम्म)।

उब्भम पु [उद् + भ्रम] ? उद्वेग २ परिभ्रमण
(नाट)।

उब्भव अक [उद् + भू] उत्पन्न होना।
उब्भवइ (पि ४७५, नाट)। वक्क उब्भवत
(सुपा ५७१, ६५६)।

उब्भव अक [ऊर्ध्व्य] ऊँचा करना, खडा
करना।

उब्भव पु [उद् + भव] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव (विसे,
गाया १, २)।

उब्भविय वि [ऊर्ध्वित] ऊँचा किया हुआ
(उप पृ १३०, वज्जा १४)।

उब्भाअ वि [दे] शान्त, ठंडा, (दे १, ६६)।
उब्भाम सक [उद् + भ्रामय] बुमाना।

उब्भामेइ (राय १२६)।

उब्भाम पु [उद् + भ्राम] ? परिभ्रमण (ठा
४)। २ वि परिभ्रमण करनेवाला (वव
१)।

उब्भामइहा ली [उद् + भ्रामिणी] स्वैरिणी,
कुलटा ली (वव ४, वृह ६)।

उब्भामय पु [उद् + भ्रामक] जार, उपपत्ति
(पिंड ४२०)।

उब्भामग पु [उद् + भ्रामक] ? पारदारिक,
परली-सम्पट (शोध ६० भा)। २ वायु-विरोध,
जो वृण गवैरह को ऊपर ले उडता है (जी
७)। ३ वि परिभ्रमण करनेवाला (वव १)।

उब्भामिगा } ली [उद् + भ्रामिग] कुलटा
उब्भामिया } ली, स्वैरिणी (वव ६, उप
पृ २६४)।

उब्भालण न [दे] ? सूप आदि से साफ-
सुथरा करना, उत्पवन। २ वि अपूर्व, अद्वि-
तीय (दे, १, १०३)।

उब्भालिअ वि [दे] सूप आदि से साफ किया
हुआ, उत्पृत, 'उब्भालिअ उप्पुएिअ' (पात्र)।
उब्भाव अक [रम्] क्रीडा करना, खेलना।
उब्भावइ (हे ४, १६८, पड्)। वक्क उब्भा
वत (कुमा)।

उब्भावणया } ली [उद् + भावना] ? प्रगा-
उब्भावणा } वना, गौरव, उन्नति, 'पवयण
उब्भावणया' (ठा १०—पत्र ५१४)। २
उत्प्रेक्षा, वितर्कणा, 'असम्भावउब्भावणहि'
(गाया १, १२—पत्र १७४)। ३ प्रकाशन,
प्रकटीकरण (एदि)।

उब्भाविअ न [रमण] सुरत, क्रीडा, समोण
(दे १, ११७)।

उब्भास सक [उद् + भासय] प्रता
शित करना। वक्क उब्भासत, उब्भासेत
(पउम २८, ३६, ३, १५५)।

उब्भासिय वि [उद् + भासित] प्रकाशित
(हेका २८२),

'भवणामो नीहरते जिएणिम

चाउब्बिहेहि देवेहि ।

इतेहि य जतेहि य

कहमिअ उब्भासिय गयए ॥'

(सुपा ७७)।

उब्भासुअ वि [दे] शोभाहीन (दे १,
११०)।

उब्भासेत देखो उब्भास

उच्चि देखो उच्चिभय = उच्चिभद (आचा)।

उच्चिउडि वि [उद् + भ्रुकुटि] भौह चढाया
हुआ (गउड)।

उच्चिज्जा ली [उद् + भेद्या] भाजी, एक
तरह का शाक (पिंड ६२४)।

उच्चिभद सक [उद् + भिद्] ? ऊँचा करना,
खडा करना। २ विकसित करना। ३ अकु-
रित करना। ४ खोलना। कर्म उच्चिभजति।
वक्क उच्चिभदमाण (आचा २, ७)।
कवक्क, 'भतिभरनिअरुच्चिभजमाणएणुनय-
पूरियसतीरा' (सुपा ६५६ ६७, भग १६, ६)।
सक्क उच्चिभदिय, उच्चिभदिउ (पचा १३,
पि ५७४)।

उच्चिभग देखो उच्चिभय = उच्चिभद (पएह १,
४)।

अक्षयशक्तिका (इक) । °लोग, °ल्येय पु
 [°लोक] स्वर्ग, देव-लोक (ठा ५, ३, भग) ।
 °वाय पु [°वात] ऊँचा गया हुआ वायु,
 वायु-विशेष (जीव १) ।
 उद्ध ऊपर देखो, 'उद्धजाला अहोसिरे भारा-
 कोट्टेवगए' (भग १, १, महा, आ ३३) ।
 उद्धक न [दे] मार्ग का उत्तम भू-भाग (सूअ
 १, २) ।
 उद्धल } पु [दे] उल्लास, विकास (दे १,
 उद्धल } ६१) ।
 उद्धविय वि [ऊर्ध्वित] ऊँचा किया हुआ
 (वला १४६) ।
 उद्धा श्री [ऊर्ध्वा] ऊर्ध्व-दिशा (ठा ६) ।
 उद्धि [दे] देखो उद्धि (सुज १०, ८) ।
 उद्धि देखो उद्धि (पड) ।
 उद्धि देखो इद्धि (पड) ।
 उद्धिय देखो उद्धिरिअ = उद्धृत (रभा) ।
 उद्धिया श्री [दे] १ पात्र-विशेष (स १७३) ।
 २ कम्बल वरैरह ओढने का वस्त्र (स ५८६) ।
 उण देखो पुण = पुनर (पिड ८२) ।
 उण न [अण] अण, करना (पड) ।
 उण } देखो पुण (प्राभा, प्रासू ६१, कुमा,
 उणा } है १, ६५) ।
 उणपन्न लीन [एकोनपञ्चाशत्] उनचास,
 ४६ (वेन्द्र ६६) ।
 उणाइ पु [उणादि] व्याकरण का एक
 प्रकरण (पणह २, २) ।
 उणाइ पु [दे] प्रिय, पति, नायक, 'उणाइ-
 साहबोला प्रियायें' (सक्षि ४७) ।
 उणो देखो पुण (गडह, पि ३४२, हे १, ६५) ।
 उणन न [ऊर्ण] मेड या बकरी के रोम,
 रोमी। देखो उन्न । °कपास पु [°कापास]
 ऊन, मेड के रोम (निद्ध १) । °णाभ पु
 [°नाभ] मकड़ी, कीट-विशेष (राज) ।
 °उण देखो पुण = पूर्ण (से ८, ६१, ६५) ।
 उणअ सक [उद् + नद्] पुकारना, आह्वान
 करना । उणअइ (प्रकृ ७४) ।
 उणइ श्री [उन्नात] उन्नति, अभ्युदय (गा
 ४६७) ।
 उणइज्जमाण देखो उणो ।
 उणम प्रव [उद् + नम्] ऊँचा होना,
 उन्नत होना । वड उणमत (पि १६६) ।

सक उणमिय (आचा २, १, ५) ।
 उणम वि [दे] समुन्नत, ऊँचा (दे १, ८८) ।
 उणय वि [उन्नत] १ उन्नत, ऊँचा (अभि
 २०६) । २ गुरुवान, गुरी (साया १, १) ।
 ३ अभिमानी (सूअ १, १६) । ४ न अभि-
 मान, गर्व (भग १२, ५) ।
 उणय पु [उन्नय] नीति का अभाव (भग
 १२, ५) ।
 उणया श्री [ऊर्णा] ऊन, मेड के रोम
 (आवम) । °पिपीलिया श्री [°पिपीलिका]
 चीटी, जन्तु-विशेष (दे ६, ४८) ।
 उणयाअक वि [उन्नायक] १ उन्नति-कारक ।
 २ पुन चन्द शाल प्रसिद्ध मध्य-गुरु चतुष्कल
 की सजा (पिंग) ।
 उणयाग पु [उन्नाक] ग्राम-विशेष (आवम) ।
 उणयाम पु [उन्नाम] १ उन्नति, ऊँचाई (से
 ६, ५६) । २ गर्व, अभिमान । १ गर्व का
 कारण-भूत कर्म (भग १२, ५) ।
 उणयाम सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना
 (से ४, ५६) ।
 उणयामिय वि [उन्नमित] ऊँचा किया
 हुआ (गा १६, २५६, से ६, ७१) ।
 उणयाल सक [उद् + नमय्] ऊँचा करना ।
 उणयालइ (प्राकृ ७५) ।
 उणयालिय वि [दे] १ कृश, दुबल । २
 उन्नमित, ऊँचा किया हुआ (दे १, १३६) ।
 उणियाअ वि [उन्नात] वितर्कित, विचारित
 (से १३, ७७) ।
 उणियाअ वि [और्णिक] ऊन का बना हुआ
 (ठा ६, ३, ओष ७०६, ८६ भा) ।
 उणियाइ वि [उन्निद्र] १ विकसित, उल्लसित
 (गडह) । २ निद्रा-रहित (माल ८५) ।
 उणिया सक [उद् + नी] १ ऊँचा ले जाना ।
 २ कहना । भवि उणियाइ (विसे ३५८५) ।
 कवक उणयाइज्जमाण (राज) ।
 उणयाइअ पु [दे] १ हुँकार । २ आकाश की
 तरफ मुँह किए हुए कुत्ते की आवाज (दे
 १, १३२) । ३ वि. गवित, 'एव भणियाओ संतो
 उणयाइओ मो कहेइ सव्व तु' (वव २, १०) ।
 उणया पु [उण] १ आतप, गरमी (साया
 १, १) । २ वि गरम, तप्त (कुमा) ।

उणहवण न [उणन] गरम करना (पिड
 २४०) ।
 उणिया श्री [दे] कृसर, खिचडी (दे
 १, ८८) ।
 उणियास पुन [उणियाप] पगडी, मुकुट (हे
 २, ७५) ।
 उणियादयभड पु [दे] भ्रमर, भमरा, भौरा (दे
 १, १२०) ।
 उणियाला श्री [दे] कीट-विशेष (आवम) ।
 उताहो अ [उताहो] अथवा या (वि ८५) ।
 उत वि [उत्त] कथित, अभिहित (सुर १०,
 ७६, स ३७६) ।
 उत वि [उत्त] १ बोया हुआ । २ निष्पत्ति,
 उत्पादित, 'दिवउत्ते अए लोए वमउत्तेति
 यावरे' (सूअ १, १, ३) ।
 उत पु [दे] वनस्पति-विशेष (राज) ।
 °उत वि [गुप्त] रक्षित (सूअ १, १, ३, ५) ।
 उत देखो पुत्त (गा ८४, सुर ७, १५८) ।
 उतइय } वि [उत्तेजित] (दश० नि० गा०
 उतइय } १११. अग०) ।
 उत्तंघ देखो उत्तघ = रुध् । उत्तघइ (हे ४,
 १३३) ।
 उत्तघ देखो उत्तभ । उत्तघइ (प्राकृ ७०) ।
 उत्तत देखो युत्तत (षड्, विक्र ३६) ।
 उत्तपिअ वि [दे] खिन्न, उद्विग्न (दे १,
 १०२) ।
 उत्तभ सक [उत् + स्तम्भ्] १ रोकना ।
 २ अवलम्बन देना, सहारा देना । कर्म.
 उत्तभिज्जइ, उत्तभिज्जेति (पि ३०८) ।
 उत्तभण न [उत्तम्भन] १ अवरोध । २
 अवलम्बन (उप पृ २२१) ।
 उत्तंभय वि [उत्तम्भक] १ रोकनेवाला ।
 २ अवलम्बन देनेवाला, सहायक (उप पृ
 २२०) ।
 उत्तस पुं [अवतस] शिरो-भूषण, अवतस
 (गडह, दे २, ५७) ।
 उत्तस पु [उत्तस] कर्ण-पूरक, कनफूल, कर्ण-
 भूषण (पाम) ।
 उत्तइय वि [दे] उत्तेजित, अधिक दीपित
 (दसन ३, ३५) ।
 उत्तण वि [दे] गर्वित (सद्धि ५६ टी) ।
 देखो उत्तण ।

रसरसिओ पिच्छइ नन्न विणा काणय”
(भोह २२)।

उम्मात्थ सक [अभ्या + गम्] सामने
शाना। उम्मात्थइ (हे ४, १६५, कुमा)।
उम्मात्थ वि [दे] श्रवो-मुख, विपरीत (दे १,
६३)।

उम्मर पुं [दे] देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी
(दे १, ६५)।

उम्मरिअ वि [दे] उखात, उम्मूलित (दे १
१००, षड)।

उम्मल वि [दे] स्थान, कठिन, षट्ट (दे १,
६१)।

उम्मलण न [उम्मर्दन] मसलना (पात्र)।

उम्मल पु [दे] १ राजा, नृप। २ भेध,
वारिश्। ३ बलात्कार। ४ वि पीवर, पुष्ट
(दे १, १३१)।

उम्महा स्त्री [दे] वृष्णा (दे १, ६४)।

उम्महण वि [उम्मथन] नाशक, विनाशकारी
(सुर ३, २३१)।

उम्माइअ वि [उम्मादित] उम्मत्त किया हुआ
(पउम २४, १९)।

उम्माडिय न [दे] उल्युक, जलता काष्ठ, गुज-
राती मे 'उवाडु' (सिरि ६८०)।

उम्माण न [उम्मान] १ माप, माशा आदि
तुला मान (ठा २, ४)। २ जो तौला जाता
है वह (ठा १०)।

उम्माद देखो उम्माय (भग १४, २)।

उम्मादइत्तअ (शौ) वि [उम्मादयित्] उम्माद
करानेवाला (अभि ४२)।

उम्माय अक [उद् + मद्] उम्माद करना,
उम्मत्त होना। वक्क उम्मायत (उप ६८६
टो)।

उम्माय पु [उम्माद्] १ चित्त-विभ्रम, पागल-
पन (ठा ६, महा)। २ कामाधीनता, विषय
में श्रत्यन्तासक्ति (उत्त १६)। ३ आलिङ्गन
(विसे)।

उम्माल देखो ओमाल (पात्र)।

उम्मालिय व [उम्मालित] सुशोभित (भवि)।

उम्माह पुं [उम्माथ] विनाश, 'नितेविज्जतावि
(कामभोगा) करेति अहियुम्माहय' (महा)।

उम्माहय वि [उम्माथक] विनाशक; 'अहो
उम्माहयत्त विसयाण' (महा; भवि)।

उम्माहि वि [उम्माथिन] विनाशक (महा-
टि)।

उम्माहिय वि [उम्माथित] विनाशित (भवि)।

उम्मि पुत्री [उम्मि] १ कल्लोल, तरंग (कुमा,
दे ३ ६)। २ भीड, जन-समुदाय (भग २,
१)। ३ मालिणी स्त्री [मालिनी] नदी-विशेष
(ठा २, ३)।

उम्मिठ वि [दे] हस्तिपक-रहित, महावत्-
रहित, निरकुश; 'उम्मिठकरिवरो इव उम्मू-
लइनयसपूह सो' (सुपा ३४८, २०३)।

उम्मिण सक [उद् + मी] तौलना, नाप
करना। कर्म उम्मिणजइ (अणु १९३)।

उम्मिय वि [उम्मिमत] प्रमित, कोडाकोडि-
जुयुम्मियावि विहियो हाहा विचित्ता गदी
(रभा)।

उम्मिल्लि वि [उम्मील्लि] विकासी, 'तत्थ य
उम्मिल्लिरपढमपह्लनासणियसयलसाहस्स' (सुपा
८६)।

उम्मिल्ल अक [उद् + मील्] १ विकसित
होना। २ खुलना। ३ प्रकाशित होना।
उम्मिल्लइ (गउड)। वक्क उम्मिल्लत (से १०,
३१)।

उम्मिल्ल वि [उम्मील] १ विकसित (पात्र,
से १०, ५०, स ७६)। २ प्रकाशमान (से
११, ६४, गउड)।

उम्मिल्लण न [उम्मीलन] विकास, उल्लास
(गउड)।

उम्मिल्लिय वि [उम्मीलित] १ विकसित,
उल्लासित। २ उद्धाटित, खुला हुआ, 'तत्रो
उम्मिल्लियाणि तस्स नयणाणि' (आवम,
स २८०)। ३ प्रकाशित। ४ बहिष्कृत,
'पजहम्मिल्लियमणिकणगयुभियणे' (जीव
४)। ५ न विकाम (अणु)।

उम्मिस अक [उद् + मिप्] खुलना,
विकसना। वक्क उम्मिसत (विक्र ३४),
उम्मिसिय वि [उम्मिपित] १ विकसित,
प्रफुल्ल (भग १४, १)। २ न विकास,
उन्मेष (जीव ३)।

उम्मिसर देखो उम्मीस (पव ६७)।

उम्मीलण देखो उम्मिहण (कुमा, गउड)।

उम्मीलणा स्त्री [उम्मीलना] प्रभव, उत्पत्ति
(राज)।

उम्मीलिय देखो उम्मिल्लिय (राज)।

उम्मीस वि [उम्मिअ] मिश्रित, युक्त (सुपा
७८, प्रासू ३२)।

उम्मूअ देखो उमुय। वक्क 'जणम्मि पीज्जमि-
वुम्मूअत चक्खु पसएण सइ निक्खिवेज्जा'
(उप पृ २०)।

उम्मूअ न [उल्लुक] अलात, चूका (पात्र)।

उम्मूच सक [उद् + मुच्] परित्याग
करना। वक्क उम्मूचत (विसे २७५०)।

उम्मूक वि [उम्मूक्त] १ विमुक्त, रहित,
'सि वीरा वघाणुम्मूक्का नावकखति जीविय'
(सूत्र १, ६)। २ उद्विपत्त (श्रौप)। ३
परित्यक्त (आवम)।

उम्मूग वि [उम्मग] १ जल के ऊपर तेरा
हुआ। २ न तेरना। 'निमुगिया स्त्री
[निमग्नता] उमउम करता, 'सि भिक्खू
वा० उद्गसि पवमाणे नो उम्मूगनिमुगियं
करेज्जा' (आचा २, ३, २, ३)।

उम्मूग्गा } स्त्री देखो उम्मग्गा = उम्म न
उम्मूज्जा } (परह १, ३, पि १०४, २३४
आचा)।

उम्मूट्ट वि [उम्मूट्ट] स्पष्ट, छुआ हुआ
(पात्र)।

उम्मूद्धिअ वि [उम्मूद्धित] १ विकसित,
प्रफुल्ल (गउड, कप्पू)। २ उद्घाटित, खोला
हुआ, 'उम्मूद्धिअओ समुगो, तम्मपके लहुम-
मुग्गय नियइ' (सुपा १४४)।

उम्मूयण न [उम्मोचन] परित्याग, छोड़
देना (सुर २, १६०)।

उम्मूयणा स्त्री [उम्मोचना] त्याग, उम्मन
(आव ५)।

उम्मूह वि [दे] दृप्त, अभिमानी (दे १,
६६, षड)।

उम्मूह वि [उम्मूह्य] १ संमुख (उप पृ
१३४)। २ ऊर्ध्व-मुख (से ६, ८२)।

उम्मूह वि [उम्मूह] विशेष मूढ, प्रचन्द
मुग्ध। 'विसूइया स्त्री [विसूचिना] रोग-
विशेष, हैजा (सुपा १६)।

उम्मूल वि [उम्मूल] उम्मूलन करनेवाला,
विनाशक (गा ३-५)।

उम्मूल न [उद् + मूल्य] उम्माहना,
मूल न उखाड फेंकना। उम्मूले (महा)।

साधन करनेवाले का सहायक (सुपा १५१, स ३६६)। देवो उत्तरा^०।
 उत्तरओ अ [उत्तरत] उत्तर दिशा की तरफ (ठा ८, भग)।
 उत्तरग न [उत्तरङ्ग] १ दरवाजे का ऊपर का काष्ठ (कुमा)। २ वि चपल, चचल (मुद्रा २६८)।
 उत्तरकुरु पु व [उत्तरकुरु] १ देव-भूमि स्वर्ग (स्वप्न ६०)। २ स्त्री भगवान् नमिनाथ की दीक्षाशिविका (विचार १२६)।
 उत्तरण न [उत्तरण] १ उतरना, पार करना (ठा ५, स ३६२)। २ अचतरण, नीचे आना (ठा १०)।
 उत्तरणवरडिया स्त्री [दे] उडुप, जहाज, डोगी (दे १, १२२)।
 उत्तरविउन्विय वि [उत्तरवैक्रियिक] उत्तर-वैक्रियनामक लव्घि से सम्पन्न (पच २, २०)।
 उत्तरसग देखो उत्तरा-सग (पव ३८)।
 उत्तरा स्त्री [उत्तरा] १ उत्तर दिशा (ठा १०)। २ मध्यम ग्राम की एक मूच्छन्ता (ठा ७)। ३ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ८)। ४ दिगम्बर-मत-प्रवर्तक आचार्य शिवभूति की स्वनाम ध्यात भगिनी (विसे)। ५ अहिच्छत्रा नगरी की एक वापी का नाम (ती)। ६ 'णंदा स्त्री [नन्दा] एक दिक्कुमारी देवी (राज)। ७ 'पह पु [पथ] उत्तरदिशा-स्थित देश, उत्तरीय देश (आचू २)। ८ 'फगुणी देखो उत्तर-फगुणी (सम ७, इक)। ९ 'भद्वया देखो उत्तर-भद्वया (सम ७, इक)। १० 'यण न [यण] उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा में गमन, माघ से लेकर छ महीना (सम ५३)। ११ 'यया स्त्री [यता] गान्धार-ग्राम की एक मूच्छन्ता (ठा ७)। १२ 'वह देखो 'पह (महा, उव १४२ टी)। १३ 'सग पु [सग] उत्तरीय वन वा शरीर में न्यास-विशेष, उत्तरासण (कप, भग, श्रौप)। १४ 'समा स्त्री [समा] मम्म ग्राम की एक मूच्छन्ता (ठा ७)। १५ 'साढा स्त्री [पाढा] नक्षत्र-विशेष (सम ६, कस)।
 हुत्त न [भिमुत्त] १ उत्तर की तरफ। २ वि उत्तर दिशा की तरफ मुँह किया हुआ (पौप ६५०, भाव ४)।

उत्तरिज्ज } न [उत्तरीय] चादर, डुपट्टा
 उत्तरिय } (उवा, प्राप्र. हे १, २४८);
 'जरजिन्न उत्तरिय' (सुपा ५४६),
 उत्तरिय वि [उत्तीर्ण] १ उतरा हुआ, नीचे आया हुआ (सुर ६, १५६)। २ पार पहुँचा हुआ (महा)।
 उत्तरिय वि [औत्तरिक, औत्तराह] देखो उत्तर (ठा १०, विसे १२४५)।
 उत्तरिह्ण वि [औत्तराह] उत्तर दिशा या काल में उत्पन्न या स्थित, उत्तर-सम्बन्धी, उत्तरीय, 'अह उत्तरिह्णव्यगे' (सुपा ४२, सम १००, भग)।
 उत्तरीअ देखो उत्तरिय = उत्तरीय (कुमा, हे १, २४८, महा)।
 उत्तरीकरण न [उत्तरीकरण] उच्छृष्ट बनाना, विशेष शुद्ध करना, 'तस्स उत्तरीकरणेण' (पडि)।
 उत्तरोड्ड पु [उत्तरोड्ड] १ ऊपर का झोठ (पि ३६७)। २ श्मश्रू, मूँछ (राज)।
 उत्तलहअ पु [दे] विटप, अक्रुर (दे १, ११६)।
 उत्तव वि [उत्तवत्] जिसने कहा हो वह (पि ५६६)।
 उत्तस अक [उत् + त्स] १ त्रास पाना, पीडित होना। २ डरना, भयभीत होना। वक्क उत्तसंत (सुर १, २४६, १०, २२०)।
 उत्तसिय वि [उत्तस्त] १ भयभीत। २ पीडित (सुर १, २४६)।
 उत्ताड सक [उत् + ताडय्] १ ताडना, ताडन करना। २ बाध बनाना। कवक 'उत्ताडिज्जताण दहरियाण कुडवाण' (राय)।
 उत्ताडण न [उत्ताडण] १ ताडना करना (कुमा)। २ बाध बनाना (राज)।
 उत्ताण वि [उत्तान] १ उन्मुल, ऊर्ध्व-मुल (पचा १८)। २ चित्त (विपा १, ६, ठा ४, ४)। ३ विस्फारित, 'उत्ताणणायणपेच्छ-रिण्जा पासादीया वरिसण्णजा' (श्रौप)। ४ अनिपुण, अकुशल, 'उत्ताणमई न साहए धम्म' (धम्म ८)। ५ 'साइय वि [शाथिन्] चित्त सोनेवाला (कस)।
 उत्ताणअ } ऊपर देखो (भग, गा ११०,
 उत्ताणग } कस)।

उत्ताणपत्तय वि [दे] एररड-सम्बन्धी (पत्ती वौरह), (दे १, १२०)।
 उत्ताणिवि [उत्तानित] १ चित्त किया हुआ (से ६, ८९, गा ४६०)। २ चित्त सोनेवाला (दसा)।
 उत्तार सक [अव + तारय्] नीचे उतारना। वक्क उत्तारेमाण (ठा ५)।
 उत्तार सक [उत् + तारय्] १ पार पहुँचाना। २ बाहर निकालना। ३ दूर करना, 'देहो नईए खित्तो, तम्मो एए जइ नो उत्तारिंता तो ह मरिज्जण' (सुपा ३५७, काल)।
 उत्तार पु [उत्तार] १ उतरना, पार करना, 'अणुसोओ संसारो पडिसोओ तस्स उत्तारो' (वस २), 'राइउत्ताराइ' (उवर ३२)। २ परित्याग (विसे १०४२)। ३ उतारनेवाला, पार करानेवाला, 'अवसयसहस्सदुलहे,
 जाइजरामरणसागरोत्तारे।
 जिणवयणम्मि गुणायर।
 खणमवि मा काहिसि पमाय'
 (आसू १३४)।
 उत्तार पु [दे] आवास-स्थान, गुजराती में 'उतारो' (सिरि ७००)।
 उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर करना। ३ बाहर निकालना। ४ पार करना, 'ता अण्जवि मोहमहाअहिसिवेगा
 फुरति तुह बाढ।
 ताणुत्तारणहेउ, तम्हा
 णत्त कुणसु भइ।' (सुपा ५५७, विसे १०४०)।
 उत्तारय वि [उत्तारक] पार उतारनेवाला (स ६४७)।
 उत्तारिवि [उत्तारित] १ पार पहुँचाया हुआ। २ दूर किया हुआ। ३ बाहर निकाला हुआ, 'तेणवि उत्तारिओ भूमिविवराओ' (महा)।
 उत्ताल वि [उत्ताल] १ महान्, बड़ा, 'उत्ताल-तालयाण वरिणएहि दिज्जमाणण' (सुपा ५०२)। २ उतावला, शीघ्रकारी, 'कहवि उत्तालो अण्णडिलेहियसेज्ज गिएहतो' (सुपा ६२०)। ३ उदत (दे १, १०१)। ४ वेताल, ताल विरुद्ध गान का एक दोष, 'गायतो मा

उलुउडिअ वि [दे] प्रलुठित, विरेचित (दे १, ११६)।

उलुओसिअ वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित (पड्)।

उलुकसिअ वि [दे] ऊपर देखो (दे १, ११५)।

उलुखड पु [दे] उल्युक, अलात, लूका (दे १, १०७)।

उलुग पुं [उल्लू] १ उल्लू, पेचक। २ देश-विशेष (पउम ६८, ६६)।

उलुग पु [उल्लू] उल्लू, घूक, पेचक (धर्मस ६७१, १२६५)।

उलुगी ली [औल्लू] विद्या विशेष (विसे २४५४)।

उलुग वि [अवसृण] बीमार (महा)।

उलुग वि [दे] देखो ओलुग (महा)।

उलुफुटिअ वि [दे] १ विनिपातित, विना-शित। २ प्रशान्त (दे १, १३८)।

उलुय देखो उल्लू, 'अह कह दिणमणियेय, उलुयाण हरइ अघत्त' (सट्टि १०८, सुर १, २६, पउम ६७, २४)।

उलुहत्त पु [दे] काक, कौआ (दे १, १०६)।

उलुहलिअ वि [दे] अतृप्त, तृप्तिरहित (दे १, ११७)।

उलुहलअ वि [दे] अवितृप्त, तृप्तिरहित (पड्)।

उल्लू पु [उल्लू] १ उल्लू, पेचक (पात्र)। २ वैशेषिक मत का प्रवर्तक कथाद भुनि (सम्म १४६, विसे २५०८)।

उल्लूखल देखो उऊखल (कुमा)।

उल्लू पु [उल्लू] महगल ध्वनि (रमा)।

उल्लूखल देखो उऊखल (हे १, १७१, महा)।

उल्लू वि [आर्द्र] गीला, आर्द्र (कुमा, हे १, ८२)। गच्छ पु [गच्छ] जैन भुनिमो का गण-विशेष (कम्प)।

उल्लू सक [आर्द्रय] १ गीला करना, आर्द्र करना। २ अक आर्द्र होना। उल्लेइ (हे १, ८२)। वक उल्लत, उल्लित (गउड)। सक उल्लेत्ता (महा)।

उल्लू न [दे] ऋण, करजा, 'तो म उल्ले भरिऊण' (सुपा ४८६)।

उल्लूअण न [उल्लयण] अणंण, समणंण (सि ११, ५१)।

उल्लूक पु [उल्लूक] काष्ठ-मय वारक (निचू १२)।

उल्लूय सक [उत् + लड्] उल्लयन करना, अतिक्रमण करना। उल्लयण (पि ४५६)।

हेक उल्लयित्तए (भाग ८, ३३)।

उल्लूय पु [उल्लू] उल्लयन, अतिक्रमण (संबोध ६)।

उल्लूयण न [उल्लूयण] १ अतिक्रमण, उल्लयन (पराण ३६)। २ वि अतिक्रमण करनेवाला: 'उल्लयणो य चडे य पावसमणो ति बुच्चइ' (उत्त ८)।

उल्लूठ वि [उल्लूठ] उद्धत, 'जपति उल्लूठ-वयणाइ' (काल)।

उल्लूडग पु [उल्लूडक] छोटा मृदग, वाय-विशेष (राज)।

उल्लूडिअ वि [दे] वहिष्कृत, बाहर निकाला हुआ (पात्र)।

उल्लूवण न [उल्लूवण] उद्वन्धन, फाँसी लगा कर लटकना (सम १२५)।

उल्लूक वि [दे] १ भग्न, टूटा हुआ। २ स्तब्ध, 'उल्लूक सिराजाल' (स २६४)।

उल्लूट्ट देखो उल्लूट्ट = उद-वृत्। उल्लूट्टइ (प्राक ७२)।

उल्लूट्ट वि [दे] उल्लूट्टित, खाली किया हुआ (दे ७, ८१)।

उल्लूट्टिय देखो उल्लूट्ट—(दे), 'सो पुरा नरो पविट्ठो भट्ठो सत्याउ त महाअडवि। उल्लूट्टिय-कूबोदगमिव कठणएहि पाणेहि' (धर्मवि १२४)।

उल्लूण वि [उल्लूण] उल्लूण (पचा २)।

उल्लूण न [आर्द्रीकरण] गीला करना (उवा शोध ३६, से २, ८)।

उल्लूण न [दे] खाद्य वस्तु-विशेष, शोमामन (पिंड ६२४)।

उल्लूणिया ली [आर्द्रयणिका] जल पोटने का गमला, टोपिया (उवा)।

उल्लूदिय वि [दे] भाराकान्त, जिसपर बोझ लादा गया हो वह: 'अह तम्मि सत्यलंए उल्लूदियसयलनसहनिमरम्मि' (सुर २)।

उल्लूय न [दे] कौडियो का भाभूपण (दे १, ११०)।

उल्लूअक [उत् + लल्] १ चलित होना, चञ्चल होना। २ ऊँचा चलना। ३ उल्लय होना। उल्लइ (से ११, १३)। वक, उल्लयत (काल)।

उल्लूअिअ वि [उल्लूअिअ] १ चञ्चल (गा ५६६)। २ उत्पन्न (से ६, ६८)।

उल्लूअिअ वि [दे] शिथिल, बीला (दे १, १०४)।

उल्लूय सक [उत् + लप्] १ कहना। २ बकना, बकवाद करना, खराब शब्द बोलना, 'ज वा त वा उल्लयइ' (महा)। वक उल्लयत, उल्लयेमाण (पउम ६४, ८, सुर १, १६६)।

उल्लूय सक [उत् + ल्] उल्लयन करना। सक उल्लयिऊण। हेक उल्लयिउ। क उल्लयिअव (प्राक ६६)।

उल्लूयण न [उल्लयण] १ बकवाद २ कथन: 'जइवि न जुज्जइ जह तह मएवल्लहनामवल्ल वण' (सुपा ४६८)।

उल्लूयिअ वि [उल्लयिअ] १ कथित, उक्त। २ न उक्ति, वचन, 'अगपच्चगसठाए चास्तुलियि पेहए' (उत्त)।

उल्लूयिअ वि [उल्लयिअ] १ उक्त, भाषक। २ बकवादी, वाचाट (गा १७२ सुपा २२६)।

उल्लूअ अक [उत् + लस्] १ विवर्तित होना। २ लुप्त होना। उल्लइ (पड्)। वक उल्लसत (गा ५६०, वण्)।

उल्लूअ देखो उल्लूअ (गउड)।

उल्लूअिअ वि [उल्लूअिअ] १ विकल्पित। २ हल्पित (पड्, निचू)।

उल्लूअिअ वि [दे उल्लूअिअ] पुलकित, रोमाञ्चित (दे १, ११५)।

उल्लूअ वि [दे] सात मारना, पाद प्रहार (तट्ट)।

उल्लूअय वि [उल्लूअय] १ वक वचन। २ वचन (भाग)।

उल्लूअल सक [उत् + नमय] १ उचा करना। २ ऊपर फेंकना। उल्लाल (हे ४, ३६)। वक उल्लूअेमाण (अत २१)।

उल्लूअल सक [उत् + लल्य] ठाढ़ करना, बजाना। वक उल्लूअेमाण (राज)।

उत्थघ पु [उत्तम्भ] ऊर्ध्व-प्रसरण, ऊँचा फैलाना (से ६, ३३) ।
 उत्थघण न [उत्तम्भन] ऊपर देखो (गउड) ।
 उत्थघि वि [उत्तैपिन्] ऊँचा फेंकना (गउड) ।
 उत्थघिअ वि [उत्तमित] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया हुआ (कुमा) ।
 उत्थघिअ वि [रुद्ध] रोका हुआ (कुमा) ।
 उत्थघिअ वि [उत्तम्भित] उत्थापित, उठाया हुआ (से ५, ६०) ।
 उत्थभि नि [उत्तम्भिन] १ आघात-प्राप्त, अवलम्बन करनेवाला, 'घारिज्जइ जलनिहीवि कल्लोलोत्थमिसत्तकुलसेलो । न हृ अन्नजम्मनिम्मिअ-मुहासुहो कम्म-परिणामो ॥' (प्रासू १२७) ।
 उत्थभिअ नि [उत्तम्भित] १ अवलम्बित । २ रूका हुआ, स्तम्भित, 'अइपीएत्थएउत्थ-भिआणए सुअणु सुएणु मह वअण' (गा ६२४) । ३ कन्धन-मुक्त किया हुआ (स ५६८) ।
 उत्थभिर देखो उत्तंभि (वज्जा १५२) ।
 उत्थघ पु [दे] समदं, उपमदं (दे १, ९३) ।
 उत्थपण देखो उट्टयण (कुप्र ११७) ।
 उत्थय देखो उत्थइय (कप्प), 'निवडति तणोत्थयदूमियामु तुगावि मायगा' (उप ७२८ टी) ।
 उत्थर सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना । मक उत्थरिवि (अप) (अवि) ।
 उत्थर मक [अव + स्त्] १ आच्छादन करना, टाना । २ पराभव करना । वक उत्थरत, उत्थरमाण (पएह १, ३, राज) ।
 उत्थर } मक [उत् + स्त्] आच्छादन
 उत्थर } करना (?) । उत्थरइ, उत्थल्लइ (प्राह ७५) ।
 उत्थरिअ वि [आक्रान्त] आक्रान्त, दबाया हुआ, 'उत्थरिअवगिमाइ अकत' (पात्र, नरि) ।
 उत्थरिय वि [ट] १ निम्नत, निर्गत (स ४०३) ।

'अच्छुकुत्थरियमहल्लवाह-भरनीसहा पडिया' (सुपा २०) ।
 २ उत्थित, उठा हुआ (दे ७, ६२) ।
 उत्थल न [उत्थल] १ ऊँची धूल राशि, उन्नत रज पुञ्ज (भग ७, ६ टी) । २ उन्मागं, कुपथ (से ८, ६) ।
 उत्थलिअ न [दे] १ घर, गृह । २ वि उन्मुल-गत, ऊँचा गया हुआ (दे १ १०७, स १८०) ।
 उत्थल्ल अक [उत् + शल्] उच्छलना, कूदना । उत्थल्लइ (षड्) ।
 उत्थल्लपथल्ला स्त्री [दे] दोनो पार्श्वों से परिवर्तन, उथल पुथल (दे १, १२२) ।
 उत्थल्ला स्त्री [दे] १ परिवर्तन (दे १, ६३) । २ उद्वर्तन (गउड) ।
 उत्थल्लिअ वि [उच्छलित] उच्छला हुआ, 'उत्थल्लिअ उच्छलिअ' (पात्र) ।
 उत्थाइ वि [उत्थायिन्] उठनेवाला (दे ८ १६) ।
 उत्थाइय वि [उत्थापित] उठाया हुआ, 'पुन्वुत्थाइयनरवरदेसे दडाहिव ठवइ महण' (सुपा ३५२) ।
 उत्थाण न [उत्थान] १ वीर्य, बल, पराक्रम (विसे २८-२६) । २ उत्थान, उत्पत्ति, 'वच्छावाही असज्जो न नियतइ ओसहेहि कएहि । तम्हा तीउत्थाए निअभियव्व हिएसीहि' (सुपा ४०४) ।
 उत्थामिय (अप) वि [उत्थापित] उठाया हुआ (अवि) ।
 उत्थार सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना, दवाना । उत्थारइ (हे ४, १६०, षड्) ।
 उत्थार देखो उच्छाह = उत्साह (हे २, ४८, षड्) ।
 उत्थारिय वि [आक्रान्त] आक्रान्त, दबाया हुआ, 'उत्थारिअतरगरिउवग्गो' (कुमा, सुपा ५४६) ।
 उत्थिय देखो उट्टिय (हे ४, १६, पि ३०) ।
 उत्थिय देखो उत्थइअ (पचाद) ।
 उत्थिय वि [तीर्थिक] मतानुयायी, दर्शनानुयायी (उवा, जीव ३) ।
 उत्थिय वि [यूथिक] यूथ प्रविष्ट, 'अएण-उत्थिय—' (उवा, जीव ३) ।

उत्थुभण न [अवस्तोभन] अनिष्ट की शान्ति के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, धू-धू आवाज करना । (वृह १) ।
 उद न [उद्] जल, पानी, 'अवि साहिए दुवे वासे सीओद अओच्चा निवत्ते' (आचा, भग ३, ६) । °उल्ल °ओल्ल वि [°द्रि] पानी से गीला । (श्रोष ४८६, पि १६१) । °गत्ताभ न [°गत्ताभि] गोत्र-विशेष (ठा ७) ।
 उदइय देखो ओदइय (अणु) ।
 उदइल्ल वि [उदयिन्] उदयवान्, उन्नति-शील, 'सिरिअभयदेवसुरो अपुव्वसुरो सयावि उदइल्लो' (सुगा ६२२) ।
 उदक पु [उदक्क] जल का पात्र विशेष, जिससे जल ऊँचा छिड़का जाता है (ज २) ।
 उदच सक [उद् + अच्] ऊँचा जाना (कुमा) ।
 उदचण प [उदच्चन] १ ऊँचा फेंकना । १ वि ऊँचा फेंकनेवाला (अणु) ।
 उदचिर वि [उदच्चिर] ऊँचा जानेवाला (कुमा) ।
 उदत पु [उदन्त] हकीकत, समाचार, वृत्तान्त, 'पिअममेऊए कइवल वीओदंतो व्व राहवस्स उवणिओ' (से ४, ५५, स ३०, भग) ।
 उदप पु [उद्दप्प] कृष्णराज पुत्र उदय (नल-दव० रास० ऋषिवर्धन) ।
 उदग पुन [उदक] जल पानी, 'चत्तारि उदगा पएणत्ता' (ठा ४, जी ५) । २ वनस्पति-विशेष (दस ८, ११) । ३ जलाशय (भग १, ८) । ४ पु स्वनाम स्यात् एक जैन साधु । ५ सातवें भावी जिनदेव (सूअ २, ७) । °गठभ पुं [गठभ] बादल, अन्न (भग २, ५) । °दोणि स्त्री [°दोणि] १ जल रखने का पात्र-विशेष, ठाढा करने के लिए गरम लोहा जिसमें डाला जाता है वह (भग १६, १) । २ जो अरधट्ट मे लगाया जाता है वह छोटा घडा (दस ७) । °पोग्गल न [पौद्गल] बादल, मेघ (ठा ३, ३) । °मच्छ पु [°मत्त्य] इन्द्र-धनुष का खण्ड, उत्पात-विशेष (भग ३, ६) । °माल पु स्त्री [°माल] जल का ऊपर चढ़ता तरंग, उदक-शिखा, वेला (ठा १०, जीव ३) । °वत्थि स्त्री

उल्लेत्ता देखो उल्ल = आद्रंय ।
 उल्लेव पु [दे] हास्य, हँसी (दे १, १०२) ।
 उल्लेहड वि [दे] लम्पट, लुब्ध (दे १, १०४, पात्र) ।
 उल्लोइय न [दे] १ पोतना, भीत को बूना वगैरह से सफेद करना (श्रीप) । २ वि पोता हुआ (गाथा १, १, सम १३७) ।
 उल्लोक वि [दे] बुद्धि, छिन्न (पड्) ।
 उल्लोच पु [दे उल्लोच] चन्द्रावप, चाँदनी (दे १, ६८, सुर १२, १, उप १०७) ।
 उल्लोह सक [उल्लोघ्नय] लोघ्न आदि से घिसना । उल्लोहज्ज (आचा २, १३, १) ।
 उल्लोय पु [उल्लोक] १ अगासी, छत (गाथा १, १, कप्प, भग) । २ थोड़ी देर, थोड़ा विलम्ब (राज) ।
 उल्लोय देखो उल्लोच (सुर ३, ७०, कुमा) ।
 उल्लोल अक [उन् + लुल्] लुठना, लेटना । वक्क उल्लोलत (निबू १७) । पु शोकाकुल स्त्री-रुदन शब्द (चउ० सारचरिय) ।
 उल्लोल सक [उद् + लोलय] पोछना । उल्लोलेह, सक उल्लोलेत्ता (आचा २, १५, ५) ।
 उल्लोल पु [दे] १ शत्रु, दुश्मन (दे १, ६६) । २ कोलाहल (पउम १६, ३६) ।
 उल्लोल पुं [उल्लोल] १ प्रबन्ध, 'उद्देसे आसि एराहियाण वियडा कहुल्लोला' (गउड) । २ वि उदमट, उद्वत, 'तरणजणविभमुल्लोल-सागरं' (स ६७) । ३ वि उल्लुक, 'बहुसो षडतविहडतसइसुहासायसगमुल्लोले । हियए च्चेय समप्पति चचला वीइवावारा' (गउड) ।
 उल्लोव (अप) देखो उल्लोच (भवि) ।
 उल्लव सक [वि + ध्मापय] ठढा करना, आग को बुझाना । उल्लवइ (हे ४, ४१६) ।
 उल्लविय वि [दे. विध्मापित] बुझाया हुआ, शान्त किया हुआ (पउम २, ६६) ।
 उल्लसिअ वि [दे] उदमट, उद्वत, (दे १, ११६) ।
 उल्ला अक [वि + ध्मा] बुझ जाना । उल्लाइ (स २८३) ।
 उव अ [उप] निम्न लिखित अर्थों का सूचक अन्वय—१ समीपता, 'उवदसिय' (पएण १) । २ सदृशता, तुल्यता (उत्त ३) ।

३ समस्तपन (राय) । ४ एकवार । ५ भीतर (आव ४) ।
 उव न [उद] पानी, जन, 'पाउवदाइ च एहाणुवदाइ च' (गाथा १, ७—पत्र ११७) ।
 उवअठ वि [उपकण्ठ] समीप का, आसन्न (गउड) ।
 उवइठु वि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादित, शिक्षित (श्रीव १४ भा. पि १७३) ।
 उवइण्य वि [उपवीर्ण] मेवित (म ३६) ।
 उवइय वि [उपचित] १ मामल, पुष्ट (पएह १, ४) । २ उन्नत (श्रीप) ।
 उवइय पुल्लो [दे] श्रोत्रिय जीव-विशेष, देखो ओवइय (जीव १ टी. पएण) ।
 उवइस सक [उप + दिश] १ उपदेश देना, सिखाना । २ प्रतिपादन करना । उवइसइ (पि १८४) । उवइसति (भग) ।
 उवउज सक [उप + युज्] उपयोग करना । कर्म उवउज्जति (विसे ४८०) । सक उवउज्जण, उवउज्ज (पि ५८५, तिबू १) ।
 उवउज्ज पु [दे] १ उपकार (दे १, १०८) । २ वि उपकारक (पड्) ।
 उवउत्त वि [उपयुक्त] १ न्याय, वाजवी । २ सावधान, अप्रमत्त (उव, उप ७७३) ।
 उवउठ वि [उपगूढ] आलिङ्गित (पात्र, से १, ३८, गा १३३) ।
 उवउह सक [उप + गूह] आलिङ्गन करना । उवउहइ (प्राक् ७४) ।
 उवउहण न [उपगूहन] आलिङ्गन (से ५, ४८) ।
 उवउहिअ वि [उपगूहित] आलिङ्गित (गा ६२१) ।
 उवउइआ स्त्री [दे] शराव परोसने का पात्र (दे १, ११८) ।
 उवएस पुं [उपदेश] १ शिक्षा, वच (उव) । २ कथन, प्रतिपादन । ३ शास्त्र, मिद्वान्त (आचा. विसे ८६४) । ४ उपदेश, जिनके विषय में उपदेश दिया जाय वह (उमं १) ।
 उवएसग वि [उपदेशक] उपदेश देनेवाला, 'हिच्चाण पुव्वसजोग, सिया किच्चोवएमगा' (सूत्र १, १) ।
 उवएसण न [उपदेशन] देखो उवएस (उत्त २८, ठा ७, विसे २५८३) ।

उवएसणया } स्त्री [उपदेशना] उपदेश
 उपएसणा } (राज. विसे २५८३) ।
 उवएसिय वि [उपदेशित] उपदिष्ट, 'सामा इयण्णुज्जति वोच्च उवएसिय गुरुण्णेण' (विसे १०८०, सएण) ।
 उवओग पु [उपयोग] १ ज्ञान, चैतन्य (पएण १२, ठा ४, ४, द ४) । २ स्वात, ध्यान, सावधानी, 'त पुण सविग्णे उवओगजुएण तिव्वसदाए' (पचा ६) । ३ प्रयोजन, आवश्यकता (सुपा ६४३) ।
 उवओगि वि [उपयोगिन्] उपयुक्त, योग्य, प्रयोजनीय, 'पताईएण विसुद्धि साहेउ गिएए जमुवओगि' (सुपा ६४३, स ५) ।
 उवग पुन [उपाज्ज] १ छोटा अवयव, क्षुद्र भाग, 'एवमादी सन्ने उवगा भएणति' (निबू १) । २ ग्रन्थ-विशेष, मूल-ग्रन्थ के अश विरोध को लेकर उसका विस्तार से वर्णन करने-वाला ग्रन्थ, टीका, 'सगोवगाएण सरहसए चउएह वेयाएण' (श्रीप) । ३ 'श्रीपपातिव' सूत्र वगैरह बाहर जैन ग्रन्थ (कप्प, ज, १, सूक्त ७०) ।
 उवजग न [उपाज्जन] मुझएण, मालिग (पएह २, १) ।
 उवकउ देखो उवअठ (भवि) ।
 उपकठ न [उपकण्ठ] समीप (सिरि ११२१) ।
 उवकउअ (शौ) अ [उपकृत्य] उपकार करके (प्राक् ८८) ।
 उवकप्प सक [उप + कल्] १ उगम्यित करना । २ करना, 'उवकप्पइ करेइ उण्णेइ वा होति एकट्ठा' (पंचमा) । उवकप्पति (सूत्र १, ११) ।
 उवकप्प पु [उपकल्प] साधु को दी जाने वाली भिक्षा, अन्नपात्र वगैरह (पंचमा) ।
 उवकय वि [उपकृत्य] जिमपर उवकार किया गया हो वह, अनुगृहीत, 'अणुयकयन-राणुगहपरायणा' (आव ४) ।
 उवकय वि [दे] सज्जित, प्रउण, तैदार (दे १, ११६) ।
 उवकर देखो उवउर = उप + कृ । उवकउ (उवा) ।
 उवकर सक [अव + कृ] व्याप्त करना । भूका 'अह्वा पणुणा उवकरिणु' (आचा १, ६, ३, ११) ।

उदीर सक [उद् + ईरय्] १ प्रेरणा करना ।
२ कहना, प्रतिपादन करना । ३ जो कर्म
उदय-प्राप्त न हो उसको प्रयत्न-विशेष से
फोन्मुख करना । उदीरइ, उदीरेंति (भग,
पनि ७८) । भूका उदीरिसु, उदीरेंसु
(भग) । भवि उदीरिस्सति (भग) । वक्क
उदीरेंत (ठा ७), 'कुसलवइमुदीरतो' (उप
६०४) । कवक्क, उदीरिज्जमाण (परण
२३) । हेक्क उदीरेंत्तेए (कस) ।

उदीराग देतो उदीरय (पच ५, ५) ।

उदीरय न [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन ।
२ प्रेरणा । ३ काल-प्राप्त न होने पर भी
प्रयत्न विशेष से किया जाता कर्म-फल का
अनुभव (कम्म २, १३) ।

उदीरण्या } लो [उदीरणा] ऊपर देखो
उदीरणा } (कम्म २, १३, १), 'ज करणे-
णोक्कइय उदए दिज्जइ उदीरणा एसा' (कम्मप
१४३, १६६) ।

उदीरय वि [उदीरय्] १ कथक, प्रतिपादक ।
२ प्रेरक, प्रवर्तक, 'एकमेक्क विसयविसउदीरएसु'
(परण १, ४) । ३ उदीरणा करनेवाला, काल-
प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न विशेष से कर्म-
फल का अनुभव करनेवाला (कम्मप १५६) ।

उदीरिद देखो उदीरिय (राय ७४) ।

उदीरिय वि [उदीरित्] १ प्रेरित, 'चालियाण
घट्टियाण लोमियाण उदीरियाण केरिसे सद्दो
भवति' (राय, जीव ३) । २ कथित, प्रति-
पादिन, धोरे धम्मे उदीरिए' (आचा) ।
३ जनित, कृत, 'ससद्दफासा फरसा उदीरिया'
(आचा) । ४ समय-प्राप्त न होने पर भी
प्रयत्न-विशेष से खींच कर जिसके फल का
अनुभव किया जाय वह (कर्म) (परण २३,
न) ।

उदु देखो उउ (प्राप, अग्नि १८९, पि ५७) ।

उदुवर देखो उवर (कस) ।

उदुस्स नक् [उद् + रुद्] ऊपर चढना ।
उदुहइ (पि ११८) ।

उदुस्सन देखो उऊरल (पि ६६) ।

उदुग पुन [उद्] पृथिवी-शिला (नचा ८, १०
टी) ।

उदुलिय पि [उद्] भवनत, नीचा नगा हुआ
(पद्) ।

उदूहल देखो उऊहल (आचा, पि ६६) ।

उद्द न [उद्दे] १ जल-मानुष । २ ककुद, दैल के
कचे का कूबड (दे १, १२३) । ३ मत्स्य-
विशेष । ४ उसके चर्म का बना हुआ वस्त्र
(आचा) ।

उद्द वि [आर्द्र] गोला, आर्द्र (षड्) ।

उद्दअ वि [उद्यत] उद्यम-युक्त (प्राक्क २१) ।

उद्ददद } वि [उद्दण्ड] १ प्रचण्ड, उद्धत
उद्दडग } (कुमा, गउड) । २ पु हाथ में
दण्ड को ऊँचा रखकर चलनेवाले तापसो
की एक जाति (श्रौप, निचू १) ।

उद्दतुर वि [उद्दतुर] १ जिसका दंत बाहर
आया हो वह । २ ऊँचा (गउड) ।

उद्दम पु [उद्दम्भ] छन्द का एक भेद (पिग) ।

उद्ददस पु [उद्ददश] मधुमक्षिका, मत्स्य
आदि छोटा कीट (कप्प) ।

उद्दड्ड पु [उद्दग्ध] रत्नप्रभा नरक-पृथिवी
का एक नरकावास (ठा ६) । 'मज्झिम पु
[मध्यम] रत्नप्रभा पृथिवी का एक नरकावास
(ठा ६) । 'वत्त पु [वत्त] देखो पूर्वोक्त
अर्थ (ठा ६) । 'वसिट्ठ पु [वशिष्ट] देखो
पूर्वोक्त अर्थ (ठा ६) ।

उद्दहर न [उद्दे ऊर्ध्वतर] सुभिक्ष, सुकाल
(वृह १) ।

उद्दम पुन देखो उज्जम = उद्यम (प्राक्क २१) ।

उद्दरिअ वि [उद्दे] १ उत्खात, उखाडा हुआ
(दे १, १००) । २ स्फुटित, विकसित, 'फुडिअ
फलिअ च दलिअ उद्दरिअ' (पाअ) ।

उद्दरिअ वि [उद्द + टप्प] गवित, उद्धत,
अभिमानी (एदि) ।

उद्दलण न [उद्दलन] विदारण (गउड) ।

उद्दव सक [उद्द, उप + द्र] १ उपद्रव
करना, पीडा करना । २ मारना, विनाश
करना, हिंसा करना, 'तए ए सा रेवई गाहा-
वईणी अन्नया कयाइ तासि दुवालसएह
सवत्तीए अतर जाणित्ता छ सवत्तीओ सत्यप्प-
ओणेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता छ सवत्तीओ
विसप्पओणेण उद्दवेइ, उद्दवेइत्ता तासि
दुवालसएह सवत्तीए कोलधरिय एगमेग
हिरएणकोडि एगमेग वय समयेव पडिबजेइ,
२ ता महासयएण समणोवासएण सद्धि उर-
लाइ भोगभोगाइ भुजमाणी विहरइ' (उवा) ।

भवि, उद्दवेहिइ (भग १५) । कवक्क उद्द-
विज्जमाण (सुअ २, १) । क्क उद्दवेयन्व
(सुअ २, ३) ।

उद्दवअ पु [उद्दव, उपद्रव] १ उपद्रव ।
२ विनाश, हिंसा, 'आरभो उद्दवओ' (आ ७) ।

उद्दवइत्तु वि [उद्दवोत्त, उपद्रोत्त] १ उपद्रव
करनेवाला । २ हिंसक, विनाशक, 'से हता
छेत्ता भेत्ता लु पित्ता उद्दवइत्ता विलु पित्ता
अकड करिस्सामि त्ति मन्नमाणे' (आचा) ।

उद्दवण न [उद्दवण, उपद्रवण] १ उपद्रव,
हरकत, 'उद्दवण पुण जाणसु अइवायविवज्जिय'
(पिड, श्रौप) । २ विनाश, हिंसा (स ८४,
आचा) ।

उद्दवण न [अपद्रावण] मृत्यु को छोड़कर सब
प्रकार का दुःख, 'उद्दवण पुण जाणसु
अइवायविवज्जिय पीड' (पिडभा २५, पिड
६७) ।

उद्दवणया } लो [उद्दवणा, उपद्रवणा]
उद्दवणा } ऊपर देखो (भग, परह १, १) ।
उद्दवाइअ देखो उद्दुवाइय, 'समणस्स एं
भगवओ महावीरस्स एव गणा हुत्था, तं—
गोदासे गणे उत्तरवल्लिस्सहणणे उद्देहणणे
चारणणणे उद्दवात्ति- (इअ)-गणे विस्सवात्ति-
(इअ)-गणे कामड्ढित- (अ)-गणे माणवणणे
कोडित्तणणे' (ठा ६) ।

उद्दविअ वि [उद्दहुत्त, उपद्रुत्त] १ पीडित,
'सवाइअ सघट्टिअ परियाविअ किलामिअ
उद्दविया ठाणाओ ठाण सकामिया' (पिड) ।
२ विनाशित, 'नाऊण विभगेण नियजिट्ठसुयस्स
विलसिय, तो सो सकुदु वो उद्दविओ' (सुपा
४०६) ।

उद्दवेत्तु देखो उद्दवइत्तु (आचा) ।

उद्दा सक [उद्द + दा] बनाना, निर्माण
करना । उद्दाइ (भग) ।

उद्दा अक्क [अव + द्रा] मरना । उद्दाई,
उद्दायाति (भग) । सक्क उद्दाइत्ता (जीव
३, ठा १०, भाग) ।

उद्दाइआ लो [उद्दोत्ती, उपद्रोत्ती] उपद्रव
करनेवाली लो, 'ताए वा उद्दाइआए कोइ
सजओ गहितो होज्जा' (श्रौष १८ भा टी) ।
उद्दाइ न देखो उद्दाय = शुम् ।

उद्दाइत्ता देखो उद्दा = अव + द्रा ।

उवगम देखो उवगच्छ । सक उवगम्म
(विसे ३१६६) । हेक उवगतुं (निचू १६) ।
उवगय वि [उपगत] १ पास आया हुआ
(से १, १६, गा ३२१) । २ ज्ञात, जाना
हुआ (सम ८८, उप पृ ५६, सार्ध १४४) ।
३ युक्त, सहित (राय) । ४ प्राप्त (भग) ।
५ प्रकर्ष-प्राप्त (सम्म १) । ६ स्वीकृत,
'अजम्पवद्धमूला, अरणेहि वि उवगया
किरिया' (उवर ५५) । ७ अन्तभूत, अन्तर्गत,
'ज च महाकम्पसुय,
जाणि अ सेसाणि छेअसुत्ताणि ।
चरणकरणाणुओगे ति
कालियत्थे उवगयाणि'
(विसे १२६५) ।
उवगय वि [उपकृत] जिसपर उपकार किया
गया हो वह (स २०१) ।
उवगर सक [उप + कृ] हित करना । उव-
गरेमि (स २०६) ।
उवगरण न [उपकरण] १ साधन, सामग्री,
साधक वस्तु (ओष ६६६) । २ बाह्य इन्द्रिय-
विशेष (विसे १६४) ।
उवगरिय न [उपकृत] उपकार (कुअ ४५) ।
उवगस सक [उप + कस्] समीप आना,
पास आना । सक उवगसित्ता (सुअ १,
४) । वक
'उवगसत भपित्ता, पडिलोमाहि वग्गुहि ।
भोगभोगे वियारेद्धि, महामोह पकुव्वइ'
(सम ५०) ।
उवगा सक [उप + गै] वर्णन करना, श्लाघा
करना, गुणगान करना । कवक उवगाइज्ज-
माण, उवगिज्जमाण, उवगीयमाण (राय,
भग ६, ३३, स ६३) ।
उवगार देखो उवयार = उपकार (सुर २,
४३) ।
उवगारग वि [उपकारक] उपकार करने-
वाला (स ३२१) ।
उवगारि वि [उपकारिन्] ऊपर देखो (सुर
७, १६७) ।
उवगारिया स्त्री [उपकारिका] प्रासाद आदि
की पीठिका (राय ८१) ।
उवगिअ न [उपकृत] १ उपकार । २ वि

जिसपर उपकार किया गया हो वह (स
६३६) ।
उवगिज्जमाण देखो उवगा ।
उवगिण्ह सक [उप + ग्रह] १ उपकार
करना । २ पुष्टि करना । ३ ग्रहण करना ।
उवगिण्हह (पि ५१२) ।
उवगीय वि [उपगीत] १ वर्णित, श्लाघित ।
२ न सगीत, गीत, गान, 'घाइयमुवगीय
नहुमवि सुय दिट्ठ चिट्ठमुत्तिकर' (सार्ध
१०८) ।
उवगीयमाण देखो उवगा ।
उवगूढ वि [उपगूढ] १ आलिङ्गित (गा
३५१, स ४४८) । २ न आलिंगन (राज) ।
उवगूढ सक [उप + गुह] १ आलिंगन
करना । २ गुप्त रीति से रक्षण करना ।
३ रचना करना, बनाना । कवक उवगूहि-
ज्जमाण (णया १, १, औप) ।
उवगूहण न [उपगूहन] १ आलिंगन । २
प्रच्छन्न रक्षण । ३ रचना, निर्माण, 'आह-
णएट्ठेहिं बालयउवगूहणेहि च' (तट्ट) ।
उवगूहिय वि [उपगूढ] आलिंगित (आवम) ।
उवगूहिय न [उपगूहित] गाढ आलिंगन
(पव १६६) ।
उवग्ग न [उपाग] १ अग्र के समीप । २
आपाढ मास, 'एसो चिय कालो पुणरेव
गण उवग्गम्मि' (वव १) ।
उवग्गह पु [उपग्रह] १ पुष्टि, पोषण (विसे
१८५०) । २ उपकार (उप ५६७ टी, स
१५४) । ३ ग्रहण, उत्पादन (ओष २१२
भा) । ४ उपधि, उपकरण, साधन (ओष
६६६) ।
उवग्गह पु [उपग्रह] सामीप्य-सम्बन्ध (धर्मस
३६३) ।
उवग्गहग वि [उपग्राहक] उपकार-कारक
(कुलक २३) ।
उवग्गहिअ न [उपगृहीत] उपकार (तट्ट
५०) ।
उवग्गहिअ वि [उपगृहित] १ उपस्थापित
(पएण २३) । २ आलिंगनादि चेट्टा, 'उवह-
सिएहि उवग्गहिएहि उवसद्धेहि' (तट्ट) । ३
उपकृत (स १५६) । ४ उपगृम्भित (राज) ।
उवग्गहिअ देखो ओवग्गहिअ (पचव) ।

उवग्गाहि वि [उपग्राहिन्] सम्बन्धी, सम्बन्ध
रखनेवाला (स ५२) ।
उवग्गघाय पु [उपोद्धात] ग्रन्थ के आरम्भ
का वक्तव्य, भूमिका (विसे ६६२) ।
उवग्गघाय वि [उपघातक] विनाशक (धर्म-
सं ५१२) ।
उवग्गाइ वि [उपघातिन्] उपघात करने-
वाला (भास ८७, विसे २००८) ।
उवग्गाइय वि [उपघातिक] १ उपघात-
कारक (विसे २००६) । २ हिंसा से सम्बन्ध
रखनेवाला, 'भूओवघाइए' (औप) ।
उवग्गघाय पु [उपघात] १ विराधना, आघात
(ओष ७८८) । २ अशुद्धता (ठा ५) । ३
विनाश (कम्म १, ५४) । ४ उपद्रव (तट्ट) ।
५ दूसरे का अशुभ-चिन्तन (भास ५१) ।
'नाम न [नामन्] कर्म विशेष, जिसके
उदय से जीव अपने ही शरीर के पड्जोम,
चोरदत्त, रसौली आदि अवयवों से तेशर
पाता है वह कर्म (सम ६७) ।
उवग्गघायण न [उपघातन] ऊपर देवो
(विसे २२३) ।
उवचय पु [उपचय] १ वृद्धि (भग ६, ३) ।
२ समूह (पिड २, ओष ४०७) । ३ शरीर
(आव ५) । ४ इन्द्रिय पर्याप्ति (पएण १५) ।
उवचयण न [उपचयन] १ वृद्धि । २
परिपोषण, पुष्टि (राज) ।
उवचर सक [उप + चर] १ सेवा करना ।
२ समीप में धूमना फिरना । ३ आरोप
करना । ४ समीप में खाना । ५ उपद्रव
करना । उवचरइ, उवचरण, उवचरामी,
उवचरति (वृह १, पि ३४६, ४५५,
आचा) ।
उवचर सक [उप + चर] व्यवहार करना ।
उवचरति (पिडभा ६) ।
उवचरय वि [उपचरक] १ सेवा के निप
में दूसरे के अहित करने का मौका देने-
वाला (सुअ २, २, २८) । २ पु जासुअ,
चर (आचा २, ३, १, ५) ।
उवचरिय वि [उपचरित] कल्पित (धमम
२४५) ।
उवचरिय वि [उपचरित] १ उगासित,
सेवित, बहुमानित (स ३०) । २ न उपचार,
सेवा (पचा ६) ।

उद्देह पु [उद्देह] भगवान् महावीर का एक गण—साधु समुदाय (ठा ६, कप्प)।
उद्देहलिया स्त्री [उद्देहलिका] वनस्पति-विशेष (राज)।

उद्देहिया } स्त्री [दे] उपदेहिका, शोमक,
उद्देही } त्रीन्द्रिय जन्तु विशेष (जी १६,
स ४३५, श्लोष ३२३), 'उवदेहीइ उद्देही'
(दे १, ६३)।

उद्देहग वि [उद्दोहक] घातक, हिंसक
(पह १, ३)।

उद्दे वेळो उद्द (से ३, ३३, पि ८३, महा;
हे २, ५६, ठा ३, २)।

उद्दअ वि [उद्धत] १ उन्मत्त (से ४, १३,
पाय)। २ गर्वित, अभिमानी (भग ११,
१०)। ३ उत्पादित (एयाया १, १)। ४
प्रतिप्रवृत्त, 'उद्धततमघकार-' (पह १, ३)।
उद्दअ देखो उद्धरिअ = उद्धृत, 'पावत्लेए
उवेच्च व उदयपयधारणा उ उद्धारो' (वव
१०)।

उद्दअ वि [दे] शान्त, ठठा (षड्)।

उद्धत देखो उद्धा।

उद्धस सक [उन् + वृत्] १ मारना। २
आक्रोश करना, गाली देना। उद्धसेइ (भग
१७)। उद्धसेति (एयाया १, १६)।

उद्धस सक [उद् + ध्वस्] विनाश करना।
सक उद्धसिऊण (स ३६२)।

उद्धसण न [उद्धर्पण] १ आक्रोश, निर्भर्त्सन।
२ वय, हिंसा (राज)।

उद्धसणा स्त्री [उद्धर्पणा] ऊपर देखो (श्लोष
३= भा), 'उच्चावयाहि उद्धपणाहि उद्धसेति,
(एयाया १, १६)।

उद्धसिय नि [उद्धर्पित] आक्रुष्ट, जिसपर
आक्रोश किया गया हो वह (निच्च ४)।

उद्धन्धवि वि [दे] विसवादित, अप्रमाणित
(दे १, ११४)।

उद्धन्धमिअ वि [दे] मञ्जित, तैयार (दे
१, ११६)।

उद्धन्धिअ नि [दे] निपिद्ध, प्रतिपिद्ध (दे
१ १११)।

उद्धट्ट देवो उद्धर।

उद्धट्ट नि [उद्धृत] उठा कर रखा हुआ
(पमं २)।

उद्धण वि [दे] उद्धत, अविनीत (षड्)।
उद्धत्थ वि [दे] विप्रलब्ध, वञ्चित (दे १,
६६)।

उद्धदेहिय न [और्ध्वदेहिक] अग्नि-संस्कार
आदि अन्त्येष्टि क्रिया (स १०६)।

उद्धम सक [उद् + हन्] १ शख वगैरह
फूँकना, वायु भरना। २ ऊँचा फेंकना,
उठाना। कवक उद्धम्मताण सखाए सिगाए
सखियाए खरमुहीए' (राय), 'पायालसहस्स-
वायवसवेगसलिलउद्धम्ममाणदगरयरयधकार
(रयणागरसागर)' (पह १, ३, श्लोप)।

उद्धर सक [उद् + ह्] १ फँसे हुए को
निकालना, ऊपर उठाना। २ उन्मूलन करना।
३ दूर करना। ४ खीचना। ५ जीर्ण मन्दिर
वगैरह का परिष्कार-संस्कार करना। ६
किसी ग्रथ या लेख के अश-विशेष को दूसरी
पुस्तक या लेख में अतिकल नकल करना।
भवि उद्धरिस्सइ (स ५६६)। वक पइनगर
पइगाम पाय जिणामदिराइ पूयतो, जिन्नाइ
उद्धरतो' (सुपा २२४),

'जयइ धरमुद्धरतो भरणीसारियमुहंगचलरोए।
रियवेहेए करेए व पचणुलिणा महाकुम्मो'
(गउड)।

सक उद्धरिउ, उद्धरिऊण, उद्धरिन्ता,
उद्धरिन्तु उद्धट्टु (पचा १६, प्राहू),
'त लय सव्वसो छिता, उद्धरिन्ता समूल्या'
(उत्त २३, पचा १६), 'वाहू उद्धट्टु कक्ख-
मणुव्वजे' (सूअ १, ४), 'तसे पाणे उद्धट्टु
पाद रोइज्जा' (आचा २, ३, १, ४)।

उद्धर (अप) देखो उद्धुर (भवि)।

उद्धरण न [उद्धरण] १ ऊपर उठाना। २
फँसे हुए को निकालना (गउड), 'दीणुद्धरणम्मि
घए न पउत्त' (विवे १३५)। ३ उन्मूलन।
४ अपनयन (सूअ १, ४, ६)।

उद्धरण वि [दे] उच्छिष्ट, जूठा (दे १, १६६)।

उद्धरिअ वि [उद् वृत] १ उत्पादित, उत्कृष्ट,
'हक्खुत्त उच्छूढ उक्खित्त-उप्पाडिआइ उद्धरिअ'
(पात्र)। २ किसी ग्रन्थ या लेख के अश
विशेष को दूसरे पुस्तक या लेख में अतिकल
नकल कर देना।

'एसो जीवविचारो, सखेळईए जाणणा-हेउ।
सखित्तो उद्धरिओ, रुदाओ सुय-समुद्दाओ'

(जी ५१), 'जेए उद्धरिया विजा, आगासगमा
महापरिणएओ' (आवम)। ३ आक्रुष्ट, खीचा
हुआ। ४ निष्कासित, बाहर निकाला हुआ,
'उद्धरियसव्वसल्ल—' (पचा १६)। ५ जीर्ण
वस्तु का परिष्कार करना, 'जिणामदिर न
उद्धरिअ' (विवे १३३)।

उद्धरिअ वि [दे] अर्धित, विनाशित (षड्)।
उद्धल पु [दे] दोनो तरफ की अप्रवृत्ति (षड्)।
उद्धव पु [उद्धव] ऊवो, श्रीकृष्ण का चाचा,
मित्र और भक्त (सकिम ४६)।

उद्धवअ वि [दे] उत्कृष्ट, फेंका हुआ (दे १,
१०६)।

उद्धविअ वि [दे] अर्धित, पूजित (दे १,
१०७)।

उद्धा } सक [उद् + धाव्] १ दौडना,
उद्धाअ } वेग से जाना। २ ऊँचे जाना।
उद्धाइ (पि १६५)। वक उद्धत, उद्धाअत,
उद्धायमाण (कप्प, से ६, ६६, १३, ६१,
श्लोप)।

उद्धाअ अक [ऊर्ध्वाय्] ऊँचा होना। वक
उद्धाअमाण (से १३, ६१)।

उद्धाअ वि [ऊद्धाव] उद्धावित, ऊँचा गया
हुआ, 'छिणएकडए वहत उद्धाअणिअत्तगउड-
मणिअसिहरे' (से ६, ३६)।

उद्धाअ पु [दे] १ विषमोन्नत प्रदेश। २
समूह। ३ वि थका हुआ, श्रान्त (दे १,
१२४)।

उद्धाअ वि [उद्धावित] १ फेला हुआ,
विस्तोरण, प्रखत (से ३, ५२)। २ ऊँचा
दौडा हुआ (से २, २२)।

उद्धार पु [उद्धार] १ त्राण, रक्षण (कुमा)।
२ ऋण देना, उधार देना (सुपा ५६७, आ
१४)। ३ अपहरण (अणु)। ४ अपवाद
(राज)। ५ धारणा, पढे हुए पाठ को नही
भूलना, 'पावत्लेए उवेच्च व उदयपयधारणा
उ उद्धारो' (वव १०)। 'पल्लिओवम न
['पल्योपम] समय का एक परिमाण
(अणु)। 'समय पु ['समय] समय-विशेष
(अणु)। 'सागरोवम न ['सागरोपम]
समय का एक दीर्घ परिमाण (अणु)।

उद्धरय वि [उद्धारक] उद्धार-कारक (कुप्र
२)।

उवणय पु [उपनय] यज्ञोपवीत सस्कार, उपहार, भेंट (राय १२७)।

उवणयण न [उपनयन] १ उपसहार (वव १)। २ उपस्थापन (पिंड ४४१)।

उवणयण न [उपनयन] उपवीत-सस्कार, यज्ञ-सूत्र धारण सस्कार (पण्ड १, २)।

उवणिअ देखो उवणीय (से ४, ५५)।

उवणिक्विखत्त वि [उपनिक्षिप्त] व्यवस्थापित (आचा २)।

उवणिक्खेव पुं [उपनिक्षेप] धरोहर, रक्षा के लिए दूसरे के पास रखा धन (वव ४)।

उवणिग्गम पु [उपनिर्गम] १ द्वार, दरवाजा (से १२, ६८)। २ उपवन, बगीचा (गउड)।

उवणिग्गय वि [उपनिर्गत] समीप में निकला हुआ (श्रौप)।

उवणिज्जत देखो उवणी।

उवणिमत सक [उपनि + मन्त्रय] निमन्त्रण देना। भवि, उवणिमतेहिंति (श्रौप)। सक उवणिमत्तिऊण (स २०)।

उवणिमतण न [उपनिमन्त्रण] निमन्त्रण (भग ८, ६)।

उवणिवाय पु [उपनिपात] सम्बन्ध (धर्मस ४५८)।

उवणिविट्ठ वि [उपनिविष्ट] समीप-स्थित (राय)।

उवणिसथा ली [उपनिपत्] वेदान्त शास्त्र, वेदान्त-रहस्य, ब्रह्म-विद्या (अनु ८)।

उवणिहा ली [उपनिधा] मार्गण, मार्गणा (पचस)।

उवणिहि पुली [उपनिधि] १ समीप में आनीत, धरोहर (ठा ९)। २ विरचना, निर्माण (अणु)।

उवणिहि पुली [उपनिधि] उपस्थापन, अमानत (अणु ५२)।

उवणिहिअ वि [औपनिधिक] १ उपनिधि-सम्बन्धी। २ आ ली [०फी] क्रम-विशेष (अणु ८२)।

उवणिहिय वि [उपनिहित] १ समीप में स्थापित। २ आसन्न-स्थित (सूत्र २, २)। ३ थ पु [०क] नियम विशेष को धारण करने-वाला भिक्षु (सूत्र २, २)।

उवणी सक [उप + नी] १ समीप में लाना, उपस्थित करना। २ अर्पण करना। ३ इकट्ठा करना। उवणंति (उवा), उवणोमी। भवि उवणोहिइ (पि ४५५, ४७४, ५२१)। कवक्क उवणिज्जत (से ११, ५३)। सक 'से भिक्षुणो उवणोत्ता अणो' (सूत्र २, ६, १)।

उवणीअ न [उपनीत] उपनयन (अणु २१७)। १ वयण न [०वचन] प्रशंसा-वचन (आचा २, ४, १, १)।

उवणीय वि [उपनीत] १ समीप में लाया हुआ (पात्र, महा)। २ अर्पित, उपहोक्त (श्रौप)। ३ उपनययुक्त, उपसहृत (विसे ६६६ टी, अणु)। ४ प्रशस्त, श्लाघित (आचा २)। ५ चरय पु [०चरक] अभिग्रह विशेष को धारण करनेवाला साधु (श्रौप)।

उवणत्थ वि [उपन्यस्त] उपन्यस्त, उपहोक्त, 'पुण्विणीए उवणत्थ विविह पाण-भोग्गण'। मुंजमाण विवज्जिजा' (दस ५, ३६)।

उवणत्थ पु [उपन्यास] १ वाक्योपक्रम, प्रस्तावना (ठा ४)। २ दृष्टान्त विशेष (दस १)। ३ रचना (अभि ६८)। ४ छल प्रयोग (प्रमौ २२)।

उवत्तल न [उपतल] हस्त-तल की चारो ओर का पार्श्वभाग (निचू १)।

उवताव पुं [उपताप] सन्ताप, पीडा (सूत्र १, ३)।

उवताविय वि [उपतापित] १ पीडित। २ तप्त किया हुआ, गरम किया हुआ (सुर २, २२६, सण)।

उवत्त वि [उपात्त] गृहीत (पउम २६, ४६, सुर १४, १६०)।

उवत्थद वि [उपस्तुत] ऊपर-ऊपर आच्छादित (भग)।

उवत्थाण देखो उवट्टाण (दसनि ४, ५५)। उवत्थाणा देखो उवट्टाणा (पि ३४१)।

उवत्थिय देखो उवट्ठिय (सम १७)।

उवत्थु सक [उप + स्तु] स्तुति करना, श्लाघा करना। उवत्थुणति (पि ४६४)। उवत्थुवदि (शौ) (उत्तर २२)।

उवदस सक [उप + दर्शय] दिखलाना, बतलाना। उवदसइ (कप्प, महा)। उवदसेपि (विपा १, १)। भवि, उवदसिस्सामि (महा)। वक्क उवदसेमाण (उवा)। कवक्क उवदसिज्जमाण (साया १, १३)। सक उवदसिय (आचा २)।

उवदस पु [उपदश] १ रोग विशेष, गर्मी, जुका। २ श्रवणेह, चाटना (चार ६)।

उवदसण न [उपदर्शन] दिखलाना (सण)। ०कूड पु [०कूट] नीलवत नामक पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३)।

उवदसिय वि [उपदक्षित] दिखलाया हुआ (सुपा ३११)।

उवदसिर वि [उपदर्शिन] दिखलानेवाला (सण)।

उवदसेत्तु वि [उपदर्शयित्] दिखलानेवाला (पि ३६०)।

उवदव पु [उपद्रव] ऊधम, बलेडा (महा)। उवदा ली [उपदा] भेंट, उपहार (रंभा)।

उवदाई ली [उदरुदायिक] पानी देनेवाली, 'पाउवदाइ च गृहाणेवदाइ च वाहिरसेण-कारि ठवेत्ति' (साया १, ७)।

उवदाण न [उपदान] भेंट, नजराना (भवि) उवदिस सक [उप + दिश] उपदेश देना। उवदिसइ (कप्प)।

उवदीव न [दे] द्वीपान्तर, अन्य द्वीप (दे १, १०६)।

उवदेसग वि [उपदेशक] व्याख्याता (श्रौप) उवदेसणया देखो उवएसणया (विसे २ १६)।

उवदेसि वि [उपदेशिन] उपदेशक (४)।

उवदेही ली [उपदेहिक्का] धुद्र जन्तु-दीमक (दे १, ६३)।

उवद्व सक [उप + द्र] उपद्रव ऊधम मचाना। भवि उवद्वविस्सइ (स)।

उवद्व देखो उवद्व (ठा ५)।

उवद्वण न [उपद्रवण] उपद्रव करना नग करना (धर्म ३)।

उवद्विय वि [उपद्रव] पीटित, किया हुआ (आय ४, विवे ७६)।

उत्पइअ—उत्पाएत्तए

उत्पइअ वि [उत्पतित] ऊँचा गया हुआ, उढा हुआ, 'सिंवि य आगासे उत्पइए' (उवा, सुर ३, ६६) । २ उन्नत, ऊँचा (आवा) । ३ उद्भूत, उत्पन्न (उत्त २) । ४ न उत्पतन, उढना (श्रीप) ।

उत्पइअ वि [उत्पाटित] उत्थापित, उढाया हुआ, 'खुडित्पइअमुणाल दट्ठूण पिअ व सिद्धिलवलअ एणिए' (से १, ३०) ।

उत्पइअन्व } देखो उत्पय = उत् + पत् ।
उत्पइउ }

उत्पक वि [दे] १ बहु, अत्यन्त । २ पु पद्ध, कीचड, काँदो । ३ उन्नति (दे १, १३०) । ४ समूह, राशि (दे १, १३०, पाअ, गडड, स ४३७) ।

उत्पग पु [दे] समूह, राशि,

'एवपल्लव विसरण, पहिआ

पेच्छति वृअस्वस्स ।

कामस्स लेहिउत्पगराइअ

हृथभल्ल व ॥' (गा ५८५) ।

उत्पज्ज अक [उत् + पद्] उत्पन्न होना ।

उत्पजति (कप) । वक्क उत्पज्जत, उत्पज्ज-
माण (से ८, ५५, सम्म १३४, भग, वित्ते ३३२२) ।

उत्पड सक [उत् + पत्] उढना, ऊँचा
जाना, कूदना (प्राभा) ।

उत्पड पु [उत्पट] शीन्द्रिय जन्तु-विशेष, सुद्र
कीट-विशेष (राज) ।

उत्पहिअ देखो उत्पइअ (नाट) ।

उत्पण सक [उत् + पू] धान्य वगैरहू को
मूप प्रादि से साफ सुथरा करना । कर्म 'साली
वोही जवा य पुक्कतु मलिज्जतु उत्पणज्जतु
य' (पएह १, २) ।

उत्पणण न [उत्पवन्न] मूप आदि से धान्य
वगैरहू को माफ-सुथरा करना (दे १, १०३) ।

उत्पण्ण वि [उत्पन्न] उत्पन्न, सजात, उद्भूत
(भग नाट) ।

उत्पत्त वि [दे] १ गलित । २ विरक्त
(पद्) ।

उत्पत्ति वि [उत्पत्ति] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव
(उत्त) ।

उत्पत्तिया की [औत्पत्तिनी] बुद्धि-विशेष,

विना शास्त्राभ्यासादि के ही होनेवाली बुद्धि,
स्वाभाविक मति (ठा ४, ४, एयाया १, १) ।

उत्पन्न देखो उत्पण्ण (उवा, सुर २, १६०) ।

उत्पय सक [उत् + पत्] उढना, कूदना ।

उत्पयड (महा) । वक्क उत्पयंत, उत्पयमाण

(उप १४२ टी, एयाया १, १६) । सक उत्प-

इत्ता (श्रीप) । क उत्पइअन्व (से ६, ७८) ।

हेक्क उत्पइउ (सुर ६, २२२) ।

उत्पय देखो उत्पव । वक्क उत्पअत (से ५,
५६) ।

उत्पय पु [उत्पात] १ उत्पतन, ऊँचे जाना,
कूदना, उड्डयन । २ उत्पत्ति, 'अवट्टिए चले

मदपडिवालप्याईय' (वित्ते ५७७) । 'निवय

पु [निपात] १ ऊँचा-नीचा होना,

'खरपवणुदधुयसायरतरगेहेहि हीरण नावा ।

गुरुकुल्लोलवसुट्टियनंगरनियरेण धरियावि ॥

आणवरयतरगेहि उत्पयनिवय कुणतिया वहइ'

(सुर १३, १६७) । २ नाट्य-विधि का एक

प्रकार (जीव ३) ।

उत्पयण न [उत्पतन] ऊँचा जाना उड्डयन

(ठा १०, से ६, २४) ।

उत्पयण न [उत्पलवन] जल को लाँघना,

तैरना (से ५, ६०) ।

उत्पयणी की [उत्पतनी] विद्या-विशेष (सूअ

२, २, २७) ।

उत्परि (अप) देखो उवरि (हे ४, ३३४,
पिग) ।

उत्परिवाडि, 'ंडो की [उत्परिपाटि, 'टी]

उलटा क्रम, विपर्यास, विपर्यय, 'उत्परिवाडी-

वहणे चाउम्मासा भवे लहुगा' (गच्छ १) ।

उत्परोत्पर अ [उत्पयु'परि] ऊपर-ऊपर (स

१४०) ।

उत्पल न [उत्पल] १ कमल, पद्म (एयाया १,
१, भग) । २ विमान-विशेष, (सम ३८) ।

३ सख्या-विशेष, 'उत्पलग' को चौरासी लाख

से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २,
४) । ४ सुगन्धि द्रव्य-विशेष, 'परमुपलगविण'

(ज ३) । ५ पु. परिव्राजक-विशेष (आचू

१) । ६ द्वीप-विशेष । ७ समुद्र विशेष (परएण

१५) । 'वेंटांग पु [वृन्तक] आजीविक

मत का एक साधु-समाज (श्रीप) ।

उत्पलग न [उत्पलाङ्क] सख्या-विशेष, 'हृहय'

को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या
लब्ध हो वह (ठा २, ४) ।

उत्पला की [उत्पला] १ एक इन्द्राणी, काल

नामक पिशाचेन्द्र की एक अन्न-महिषी (ठा

४, १) । २ इस नाम का 'ज्ञाताधर्मकथा' का

एक अन्वयन (एयाया २, १) । ३ स्वनाम

ख्यात एक श्राविका (भग १२, १) । ४ एक

पुष्करिणी (जीव ३) ।

उत्पलिणी की [उत्पलिनी] कमलिनी, कमल

का गाछ या पौधा (परएण १) ।

उत्पल्ल वि [दे] अर्ध्यासित, आरूढ (पद्) ।

उत्पव सक [उत् + प्लु] १ लाँघना, पार

करना, तैरना । २ ऊँचा जाना, उढना । वक्क.

उत्पवत, उत्पवमाण (से ५, ६१, ८, ८६) ।

उत्पवइय वि [उत्पव्रजित] जिसने दीक्षा

छोड दी हो वह, साधु होकर फिर गृहस्थ

बना हुआ (स ४८५) ।

उत्पह पु [उत्पथ] उन्मार्ग, कुमार्ग, 'पथाड

उत्पह नैति' (निचू ३, से ४, २६, हेका

२५६) । 'जाइ वि [यायिन्] उलटे रास्ते

जानेवाला, विपथ-नामी (ठा ४, ३) ।

उत्पा की देखो उत्पाय = उत्पाद (ठा १—

पत्र १६, ठा ५, ३—पत्र ३४६) ।

उत्पाइ वि [उत्पादिन्] उत्पन्न होनेवाला

(वित्ते २८१९) ।

उत्पाइत्ता देखो उत्पाय = उत् + पादय् ।

उत्पाइत्तु वि [उत्पादयित्] उत्पादक, उत्पन्न

करनेवाला (ठा ७) ।

उत्पाइय न [औत्पातिक] भूकप आदि

उत्पातो का सूचक शास्त्र (सूअ १, १२, ६) ।

उत्पाइय वि [उत्पादित] उत्पन्न किया हुआ,

'उत्पाइयविच्छरणकोउहलत्ते' (राव) ।

उत्पाइय वि [औत्पातिक] १ अस्वाभाविक,

कृत्रिम, 'उत्पाइयपब्बय व चकमत' । २ आक-

स्मिक, अकस्मात् होनेवाला, 'उत्पाइया वाही'

(राज) । ३ न अनिष्ट-सूचक आकस्मिक उपद्रव,

उत्पात, 'भो भो नावियपुरिसा सकनधारा समु-

जया होह । दीसइ कयतवएण व भीममुपाइयं

जेण' (सुर १३, १८६) ।

उत्पाएउ
उत्पायंत } देखो उत्पाय = उत् + पादय् ।
उत्पाएत्तए }

उपचार्यः [उपचार्य] उपचार कर्म
माना (भाष्य ८०) ।

उपचारि [उपचारिन्] उपचार्य (म
३०८, वि २३, रि ७६) ।

उपचारिभ [औपचारिभ] उपचार्य म
संज्ञा स्तोत्राणां (उप २८) ।

उपचारिपुं [उपचारि] १ एक प्रकार भूति,
या गमुं वा वा वा कीर (महा भद्रात्
श्रीनेमिनामदी ३ ॥ ११ ६०८ उपचरुणं च
एव मीरु, मदी भी (भा १) । २ उपचार्य
देविक वा उपचार्य वा उपचार्य शिष्यो
भगवान् भगवतोरे वास ही म दीरु उपचार्य-
विज्ञान मे उपचारि प्रा, की भी (भा १) ।

उपरक्ष् भी [उपरक्षि] विद्या विज्ञान (वि
२७७३, २६८०, म ११) ।

उपरज म [उप - र - ज] मत्त करता ।
कर्म उपरजादि (भा) (म २८) ।

उपरज भेत्तौ उपरज, उपरजादिना कर्म
भोग्येण विद्याकर्म संकेतविद्यया विदु म
पुत्रादिनादिभिः (भा) ।

उपरक्त वि [उपरक्त] १ मरुत् नाम पुत्र,
'मुमरुणोपुपुगता' (मुत्त २१६) । २ मरुत् मे
वर्तित (भा) । ३ मत्त (म ८७३) ।

उपरम धर [उप + रम] निवृत्त होता,
विरा होता, 'भो उपररतु त्वातो ममुत्त-
मसाणासो' (भा) ।

उपरम पु [उपरम] १ विवृत्त, विद्या,
(उप पु ६३) । २ मत्त (विने ६०) ।

उपरय वि [उपरत्] १ विद्या, विवृत्त (भावा,
मुमा ५०८) । २ मत्त (म १०८) ।

उपरय देवो उपरया, 'उपयगया धार विहिङ्ग
विमि मुण्णुणुती विदुश्' (महा) ।

उपरल (प्रप) देवो उपररिय [उं] (विग) ।

उपराग } पुं [उपराग] सुयं या चद्र वा
उपराय } ग्रहण, सद्रु-ग्रहण (पण, १, २,
से ३, ३६, गउठ) ।

उपराय पुं [उपरात्र] दिन, 'सामोवराय प्रप-
डिले अत्रगिलाय एया मुने' (भावा) ।

उपरि ध [उपरि] ऊपर, ऊर्ध्व (उव) । 'भासा
धी [भाषा] युध के बोलने के अनन्तर ही
विशेष बोलना (पडि) । 'म, 'भग, 'मय,

उ ['मान] उपर वा, उप विद्या (म
४३, मुत्त ३५, म १२ १६६, म २२,
८६) । 'उप वि ['उभिमुत्त] उपर की
मय (मुत्त २६१) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उपरि मत्त (भा) (भा १) ।

उत्पुअ वि [उत्पुलुत] उच्छलित, कूदा हुआ (से ६, ४८, परह १, ३)।
 उत्पुसिअ देखो उत्पुसिअ (से ६, ८५)।
 उत्पुणअ वि [उत्पूत] सूप से साफ-सुथरा किया हुआ (पात्र)।
 उपुण वि [उत्पूर्ण] पूर्ण, व्याप्त (स २५)।
 उपुलअ वि [उत्पुलकित] रोमाञ्चित (म २८१)।
 उत्पुसिअ वि [उत्प्रोञ्छित] लुप्त, प्रोञ्छित (से ६, ८५ गउड)।
 उत्पूर पु [उत्पूर] १ प्रादुर्भूत (परह १, ३)। २ प्रकृष्ट-प्रवाह (श्रौप)।
 उपेक्क (अप) देखो उविक्क। उपेक्क (पिण)।
 उपेक्क सक् [उत्प्र + ईक्ष] सभावना करना, कल्पना करना। उपेक्कामि (स १७)। उपेक्कैमि (स ३४६)।
 उपेक्कस्रा स्त्री [उत्प्रेक्षा] १ अलकार-विशेष २ वितर्कणा, सभावना (गा ३३६)।
 उपेक्किसअ वि [उत्प्रेक्षित] सभावित, विकल्पित (दे १, १०६)।
 उपेय न [दे] अग्रयण, तैलादि की मालिश, 'पुव च मगलट्ठा उपेय जइ करेइ गिहियाए' (वव ६)।
 उपेल नक् [उद् + नमय्] ऊँचा करना, उन्नत करना। उपेलइ (हे ४, ३६)।
 उपेलिअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया हुआ (कुमा)।
 उपेलपु [उन्नमन] ऊँचा करना (पउम ८, २७२)।
 उपेप पु [उत्पेप] त्रास, भय, डर (से १०, ६१)।
 उपेहड वि [उ] उद्भट, श्राद्धन्वरवाला (दे १, ११६, पात्र, स ४४६)।
 उपेहडो पु [उत्पेह] (गा ६३६)।
 उपेहण ना [उत् + फण्] छाटना, पवन में शान्त आदि का छिनका दूर करना। उपेहणि भूना उपेहणु, भवि उपेहणिनि (माच २, १, ६, ४)।
 उपेहणो वि [उ] नल, अन्धिर (दे १, १०२)।

उत्फाल पु [दे] खल, दुर्जन (दे १, ६०, पात्र)।
 उत्फाल सक् [उत् + पाटय्] १ उठाना। २ उठावना। उत्फालेइ (हे २, १७४)।
 उत्फाल सक् [कथ्] कहना, बोलना। उत्फालेइ (हे २, १७४)।
 उत्फाल वि [कथक] कहनेवाला, सूचक (स ६४४)।
 उत्फालिअ वि [कथित] १ कथित। २ सूचित (पात्र, उप ७२८ टी, स ४७८)।
 उत्फिड अक् [उत् + स्फिट्] कुरिठत होना, असमर्थ होना। उत्फिडइ, उत्फेडइ, 'एमाइविगप्पोहि वाहिज्जमासो उत्फि-(फ्)-इइ परसू' (महा)।
 उत्फिड अक् [उत् + स्फिट्] मडक की तरह कूदना, उठना। उत्फिडइ (उत् २७, ५)। वक् उत्फिडत (पव २)।
 उत्फिडण न [उत्स्फेटन] कुरिठत होना (स ६६८)।
 उत्फिडिय वि [उत्स्फटित] १ कुरिठत। २ बाहर निकला हुआ, कथ्यइ नक्कुक्क-त्तियसिप्पिपुहुत्फिडियमोत्तियाइन्तो' (सुर १३, २१३)।
 उत्फुकिआ स्त्री [दे] घोविन, कपडा घोनेवाली (दे १, ११४)।
 उत्फुडिअ वि [दे] आस्तुत, विछाया हुआ (दे १, ११३)।
 उत्फुण वि [दे] आपूर्ण, भरा हुआ, व्याप्त (दे १, ६२, सुर १, २३३, ३, २१५)।
 उत्फुण वि [दे] स्पृष्ट, छुआ हुआ (पव १५८ टी)।
 उत्फुल वि [उत्फुल] विकसित (पात्र, से ६, ६६)।
 उत्फुलिआ स्त्री [उत्फुलिआ] क्रीडा विशेष, पाव पर बैठ कर बारबार ऊँचा-नीचा होना, 'उत्फुलिआइ खेलउ, मा ए वारेहि होउ परिऊडा। मा जहएमारगई, पुत्तिमाअतो किलिम्मिहिइ' (गा १६६)।

उत्फुस सक् [उत् + स्पृश्] सिंचना, छिड़कना। सक् उत्फुसिऊण (राज)।
 उत्फेणउत्फेणिय किवि [दे] क्रोव-युक्त प्रबल वचन से, 'उत्फेणउत्फेणिय सीहराय एव वयासी' (विपा १, ६—पत्र ६०)।
 उत्फेस पु [दे] १ त्रास, भय (दे १, ६४)। २ मुकुट, पगडी, शिरोवेष्टन, 'पच रायककुहा परएत्ता, त जहा—खग छत्त उत्फेस उवाहएणउ वालवियणी' (ठा ५, १—पत्र ३०३, श्रौप, आचा २, ३, २, २)।
 उत्फेसण न [दे] डराना, भयोत्पादन (सुख ३, १)।
 उत्फोअ पु [दे] उदगम, उदय (दे १, ६१)।
 उवुस सक् [मृज्] मार्जन करना, शुद्धि करना, साफ करना। उवुसइ (षड्)।
 उव्वव सक् [उद् + वन्ध्] १ फाँसी लगाना, फाँसी लगा कर मरना। २ वेष्टन करना। वक् 'जलनिहितडम्मि दिट्ठा उव्व-धती इहपाए' (सुपा १६०)। सक् उव्व-धिअ, उव्वधिऊण (नाट, पि २७०, स ३४६)।
 उव्वधण न [उद्बन्धन] फाँसी लगाना, उल्लम्बन (परह २, ५)।
 उव्वण वि [उव्वण] उल्लुट (पि २६६)।
 उव्वद्ध वि [उद्बद्ध] १ जिसने फाँसी लगाई हो वह, फाँसी लगा कर मरा हुआ। २ वेष्टित, 'शुअगसघायउव्वद्धो' (सुर ८, ५७)। ३ शिक्षक के साथ शर्तों से बैठा हुआ, शिक्षक के आगत (ठा ३), 'सिप्पाई सिक्खतो, सिक्खावैतस्स देइ जा सिक्खा। गहियम्मि वि सिक्खम्मि, ज चिरकाल तु उव्वद्धो' (वृह)।
 उच्चिव वि [दे] १ खिन्न, उद्विग्न। २ शून्य ३ क्रान्त। ४ प्रकट वेष वाला। ५ भीत, डरा हुआ। ६ उद्भट (दे १, १२७, वज्जा ६२)।
 उच्चिवल वि [दे] कलुप जलवाला (दे १११ टी)।
 उच्चिवल न [दे] कलुप जल, मैला पानी (दे १, १११)।
 उच्चिविर वि [दे] खिन्न, उद्विग्न (कप्पु)।

(शाया १, १६, गडड) । २ वि महित, युक्त, 'युगसपश्रोववीओ' (विसे ३४११) ।
 उववीड अ [उपपीड] उपमदंन, 'सिबिणो-
 ववीडं श्रातिगणेषु गाढ पीडिओ' (रंभा) ।
 उववूह सक [उप + वूह्] १ पुष्ट करना ।
 २ प्रशसा करना, तारीफ करना । सक
 उववूहेऊण (दसनि ३) । कृ उववूहेयन्व
 (दसनि ३) ।
 उववूहण न [उपवूहण] १ वृद्धि, पोषण
 (पएह २, १) । २ प्रशसा, श्लाघा (पचा २) ।
 उववूहा स्त्री [उपवूहा] ऊपर देखो, उववूह-
 थिरीकणे वच्छल्लपभावणे अट्ट' (पडि) ।
 उववूहणिय वि [उपवूहणीय] पुष्टि-कर्त्ता
 (निचू ८) । स्त्री पट्ट-विशेष, राजा वगैरह के
 भोजन-समय मे उपभोग मे आनेवाला पट्टा
 (निचू ६) ।
 उववूहिय वि [उपवूहित] १ वृद्धि को प्राप्त,
 पुष्ट (सं १५) । २ प्रशमित (उप पृ ३८६) ।
 उववूहिर वि [उपवूहिन्] १ पोषक, पुष्टि-
 कारक । २ प्रशसक (सण) ।
 उववेय वि [उपेत] युक्त, -सहित (शाया १,
 १, श्रौप वसु, सुर १, ३४, विसे ६६६) ।
 उवसक्रम सक [उपस + क्रम्] समीप
 आना । वक्त उवसक्रमत (दस ५, २, १०) ।
 उवसखड सक [उपस + कृ] रंधना,
 पकाना । कवक उवसखडिजमाण (आचा
 २, १, ४, २) ।
 उवसखा स्त्री [उपसख्या] यथावस्थित पदार्थ-
 ज्ञान (सूत्र १ १२) ।
 उवसगह सक [उपस + ग्रह्] उपकार
 करना । वमं उवसगहिजइ (म १६१) ।
 उवसधम सक [उपस + ह्] उपसहार करना ।
 उवसधरमि (भवि) ।
 उवसधरिय देखो उवसहरिय (भवि) ।
 उवसधिय वि [उपसहृत] जिसका उपसहार
 किया गया हो वह, समापित (विसे १०११) ।
 उवसधि सक [उपस + चि] संचय करना ।
 सक, उवसधिवि (सण) ।
 उवसंठिय नि [उपसस्थित] १ समीप मे
 स्थित । २ उपस्थित (सण) ।
 उवसत वि [उपशान्त] १ क्रोधादि विकार-

रहित (सूत्र १, ६; धर्म ३) । २ नष्ट, अपगत,
 'उवंसंतरयं करेह' (राय) । ३ पु ऐरवत क्षेत्र
 के स्वनाम-धन्य एक तीर्थंकर-देव (पव ७) ।
 'मोह पुं [मोह] ग्यारहवां युग-स्थानक
 (सम २६) ।
 उवसति स्त्री [उपशान्ति] उपशम (आचा) ।
 उवसंधारिय वि [उपसंधारित] सकल्पित
 (निचू १) ।
 उवसपज्ज [उपस + पद्] १ समीप मे
 जाना । २ स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना ।
 उवसपज्जइ (सं १६१) । वक्त उवसपज्जत
 (वव १) । संकृ उवसपज्जिता, उवसपज्जि-
 त्ताण (कप्प, उवा) । हेक उवसपज्जिड
 (वृह १) ।
 उवसपण वि [उपसपन्न] १ प्राप्त । २
 समीप-गत (धर्म ३) ।
 उवसपया स्त्री [उपसपद्] १ ज्ञान वगैरह
 की प्राप्ति के लिए दूसरे युवादि के पास जाना
 (धर्म ३) । २ अन्यं गुरु आदि की सत्ता का
 स्वीकार करना (ठा ३, ३) । ३ लाभ, प्राप्ति
 (उत्त २६) ।
 उवसहर सक [उपस + ह्] १ हटाना, हूर
 करना । २ सकेलना, समेटना; 'ता उवसहर
 इम कोव' (कुप २८५) । सक 'उवसंहरिउ
 नीसेउदेवमाय गयो जाव' (धर्मवि १८) ।
 उवसहरिय वि [उपसहृत] समेटा हुआ,
 'वतरेण य उवसहरिया माया' (महा) ।
 उवसहार पुं [उपसहार] सकोचन, समेट
 (द्रव्य १०) ।
 उवसहार पु [उपसहार] १ समाप्ति । २
 उपनय (आ ३६) ।
 उवसग्ग पु [उपसर्ग] १ उपद्रव वाधा (ठा
 १०) । २ ध्वन्य-विशेष, जो धातु के पूर्व मे
 जोडे जाने से उम धातु के अर्थ की विशेषता
 करता है (पएह २, २) ।
 उवसग्ग वि [डे] मन्द, आलसी (दे १,
 ११३) ।
 उवसग्गिअ वि [उपसग्गित] हैरान किया
 हुआ (सिरि १११७) ।
 उवसज्ज अक [उप + सज्ज्] आनय करना ।
 उवनज्जिआ (आचा २, ८, १) ।

उवसज्जण न [उपसर्जन] १ अप्रधान, मौल
 (विसे २२६२) । ३ सम्बन्ध (विसे ३००५) ।
 उवसत्त वि [उपसक्त] विशेष आसक्तिवान
 (उत्त ३०) ।
 उवसद् पु [उपशब्द] सुरत-समय का शब्द
 (तडु) ।
 उवसद् पुन [उपशब्द] १ प्रच्छन्न शब्द । २
 समीप का शब्द (तडु ५०) ।
 उवसप्प सक [उप + सप्प्] समीप जाना ।
 सक उवसप्पिऊण (महा, स ५२६) ।
 उवसप्पि वि [उपसप्पिन्] समीप मे जने-
 वाला (भवि) ।
 उवरुप्पिय वि [उपसर्पित] पास गया हुआ
 (पात्र) ।
 उवसम पु [उप + शम्] १ क्रोध-रहित
 होना । २ शांत होना, ठंडा होना । ३ नष्ट
 होना । उवममइ (कप्प, कम, महा) । कृ
 उवसमियन्व (कप्प) । प्रयो उवसमेइ (सिं
 १२८४), उवममावेइ (पि ५५२) । कृ उव
 समाधियन्व (कप्प) ।
 उवसम पु [उपशम] १ क्रोध का प्रभाव,
 क्षमा (आचा) । २ इन्द्रिय-निग्रह (धर्म ३) ।
 ३ पन्द्रहवां दिवस (चद १०) । ४ मुहूर्त-
 विशेष (सम ५१) । 'सम्म न [सम्भयकर]
 सम्भयत्त्व-विशेष (भग) ।
 उवसमणा स्त्री [उपशमना] श्रातिप्र प्रथम
 विशेष, जिसमे कर्म-युद्गन उदय-उदीरणादि
 के अयोप्य बनाए जाय वह (पच) ।
 उवसमि वि [उपशमिन] उपशमना
 (विसे ५३० टी) ।
 उवसमिअ पु [ओपशमिक] धर्मों का उप-
 शम (श्रणु ११३) ।
 उवसमिय वि [उपशमित] उपशम प्राप्त
 (भवि) ।
 उवसमिय नि [ओपशमिक] १ उपशम के
 होनेवाला । २ उपशम के सत्त्व गत्तरा
 (मुपा ६४८) ।
 उवसाम मन [उप + शाम्य] १ शान्त
 करना । २ रहित करना । उवसामि (भा) ।
 वक्त उवसामेमाग (रात्र) । कृ उवसामि-
 चव्य (कप्प) । संकृ उवसामउत्तु (सं) ।

उत्भिडण ४ [उद्भेदन] लग कर अलग होना, आघात कर पीछे हटना;

जेसु चिय कुठिजइ,

रहसुत्भिडणमुहलो महिहरेसु ।

तेसु चिय रिणसिज्जइ,

पहिरोहदोविरो कुलिसो' ॥

(गउड) ।

उत्भिडण } वि [उद्भिन्न] १ अकुरित
उत्भिन्न } (मोघ ११३), उत्भिन्ने पाणिय
पडिय' (सुर ७, ११४) । २ उदघाटित, खोला
हुआ । ३ न जैन साधुओं के लिए भिक्षा का
एक दोष, मिट्टी वगैरह से लिप्त पात्र को
खोलकर उसमें से दी जाती भिक्षा, 'छगणाइ-
णोवउत्त उत्भिदिय ज तमुत्भिणएण' (पचा
१३, ठा ३, ४) । ४ वि ऊँचा हुआ, खडा
हुआ, 'हरिसवसुत्भिन्नरोमचा' (महा) ।

उत्भिडय वि [उद्भिद्] पृथ्वी को फाडकर
उगनेवाली वनस्पति (परह १, ४) ।

उत्भिडय वि [ऊर्ध्वित] ऊँचा किया हुआ,
खडा किया हुआ (सुपा ८६, महा, वज्जा
८८) ।

उत्भिडय न [उद्भिद्] १ लवण-विशेष,
मसुर के किनारे पर क्षार जलके ससर्ग से होने-
वाला नोन (आचा २, १, ६, ५) । २ पुन
उजरीट, शलभ आदि प्राणी (सबोध २०,
धर्मस ७२, सूत्र १, ६, ८) ।

उत्भीडय वि [ऊर्ध्वीकृत] ऊँचा किया
हुआ, 'उभोक्कयवाहुत्तुओ' (उप ५६७ टी) ।

उत्भुअ अक [उद् + भू] उत्पन्न होना ।
उत्भुअइ (हे ४, ६०) ।

उत्भुआग वि [दे] १ उबलता हुआ, अग्नि
ने ताप जो दूब वगैरह उछलता है वह (दे
१, १०५, ७, ८१) ।

उत्भुग वि [द] चल, अस्थिर (दे १, १०२) ।

उत्भुत्त मक [उन् + त्तिप्] ऊँचा फेंकना ।
उत्भुत्तइ (हे ४, १४४) ।

उत्भुत्तिअ वि [उत्तिप्] ऊँचा फेंका हुआ
(एमा) ।

उत्भुत्तिअ वि [द] उदीपित, प्रदीपित (पात्र) ।

उत्भूअ वि [उद्भूत] १ उत्पन्न (सुर ३,
२३६) । २ आगन्तुक कारण (विसे १४७६) ।

उत्भूइआ स्त्री [औद्भूतिकी] श्रीकृष्ण वासु-
देव की एक भेरी जो किसी आगन्तुक प्रयो-
जन के उपस्थित होने पर बजाई जाती थी
(विसे १४७६) ।

उत्भेअ पुं [उद्भेद] उदगम, उत्पत्ति, 'उम्हा-
अतगिरियडसीमारिणव्वडियकदलुम्भेय' (गउड),
'अभिरावजोव्वराउम्भेयसुन्दरा सयलमणहरा-
रावा' (सुर ११, ११६) ।

उत्भेइम वि [उद्भेदिम] स्वय उत्पन्न होने-
वाला, उम्भेइम पुण मयह जहा सामुद्द
लोण' (निचू ११) ।

उभ पु [उभ] उभय, दोनो (पच ६, ५८) ।
उभओ अ [उभयतस्] द्विधा, दोनो तरह
से, दोनो ओर से (उव, औप) ।

उभज्जायण देखो ओमज्जायण (सुज १०,
१६) ।

उभय वि [उभय] युगल, दो, दोनो (ठा ४,
४) । २ थ अ [त्र] दोनो जगह (सुपा
६४८) । ३ लोण पु [लोण] यह और पर
जन्म (पचा ११) । ४ हा अ [था] दोनो
तरफ में, द्विधा (सम्म ३८) ।

उमच्छ सक [वञ्च्] ठगना, धूर्तना ।
उमच्छइ (हे ४, ६३) । वक्क उमच्छत
(कुमा) ।

उमच्छ सक [अभ्या + गम्] सामने आना ।
उमच्छइ (वड) ।

उमा स्त्री [उमा] गोरी, पार्वती (पात्र) । २
द्वितीय वासुदेव की माता (सम १५२) । ३
देव-गणिका-विशेष (आचू) । ४ स्त्री-विशेष
(कुमा) । ५ साइ [रधाति] स्वनाम धन्य
एक प्राचीन जैनाचार्य और विख्यात ग्रन्थकार
(सार्ध ५०) ।

उमाण न [दे] प्रवेश (आचा २, १, ६) ।

उमार देखो कुमार (अच्छु २६) ।

उमीस वि [उन्मिअ] मिश्रित, 'पलिलसिर-
पलियपीवलकरणसुमणुमीसएहवणजल' (कुमा) ।

उमुय सक [उद् + मुच्] छोडना । वक्क
उमुयत (उत्त ३०, २३) ।

उम्मइअ वि [दे] १ मूढ, मूर्ख (दे १, १०२) ।
२ उम्मत (गा ४६८, वज्जा ४२) ।

उम्माऊह वि [उन्मयूह] प्रभाशाली
(गउड) ।

उम्मड पु [दे] १ हठ । वि उद्वृत्त (दे १,
१२४) ।

उम्मथिय वि [दे] दग्ध, जला हुआ (वज्जा
५२) ।

उम्मग्ग वि [उन्मग्ग] १ पानी के ऊपर आया
हुआ, तीर्ण (राज) । २ न उन्मज्जन, तैरना,
जल के ऊपर आना (आचा) । ३ जला स्त्री
[जला] नदी-विशेष, जिसमें पत्थर वगैरह
भी तैर सकते हैं (ज ३) ।

उम्मग्ग पु [उन्मार्ग] १ कुपथ, जलटा रास्ता,
विपरीत मार्ग (सुर १, २४३, सुपा ६५) ।
२ छिद्र, रन्ध्र (आचा) ३ अकार्य करना
(आचा) ।

उम्मग्गणा स्त्री [उन्मार्गणा] छिद्र, विवर
(आचा) ।

उम्मच्छ न [दे] १ क्रोध, गुस्सा (दे १,
१२५, से ११, १६, २०) । २ वि असबद्ध,
३ प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) ।

उम्मच्छर वि [उन्मत्सर] १ ईर्ष्यालु, द्वेषी
(से ११, १४) । २ उद्भट (गा १२७, ६७५) ।

उम्मच्छविअ वि [दे] उद्भट (दे १, ११६) ।

उम्मच्छिअ वि [दे] १ रुषित, रुष्ट, २
आकुल, व्याकुल (दे १, १३७) ।

उम्मज्ज न [उन्मज्जन] तरण, तैरना ।
उन्मिज्जिया स्त्री [उन्मिज्जिका] उभउभ
करना, पानी में ऊँचा-नीचा होना (ठा
३, ४) ।

उम्मज्जग वि [उन्मज्जक] १ उन्मज्जन करने-
वाला, गोता लगाने वाला । २ उन्मज्जन से
ही स्नान करनेवाले तापसो की एक जाति
(और, भग ११, ६) ।

उम्मड्ढा स्त्री [दे] १ बलात्कार, जबरदस्ती
(दे १, ६७) । २ निषेध, अस्वीकार (उप
७२८ टी) ।

उम्मण वि [उन्मनस्] उत्करिष्ठत, उत्सुक
(उप ५५८) ।

उम्मत्त पु [दे] १ धतूरा, वृक्ष-विशेष । २
एररड, वृक्ष-विशेष (दे १, ८६) ।

उम्मत्त वि [उन्मत्त] १ उद्धत, उन्माद-युक्त
(वृह १) । २ पागल, भूताविष्ट (पिंड ३८०) ।

उम्मा स्त्री [जला] नदी-विशेष (ठा २, ३) ।
उम्मत्तय न [दे] धतूरे का फल, "उम्मत्तय-

उम्मूलण—°उलीण

वक्क उम्मूलत, उम्मूलयंत (से १, ४, स ५६६)। सक्क उम्मूलिऊण (महा)।

उम्मूलण न [उम्मूलन] उल्पाटन, उल्लनन (पि २७८)।

उम्मूलणा व्ही [उम्मूलना] ऊपर देखो (परह १, १)।

उम्मूलिअ वि [उम्मूलिन] उत्पाटित, मूल से उखाड़ा हुआ (गा ४७५, सुर ३, २४५)। उम्मैठ [दे] देखो उम्मिठ (पउम ७१, २६, स ३३२)।

उम्मेस पु [उम्मेपु] उन्मीलन, विकास (भग १३, ४)।

उम्मोयणी व्ही [उम्मोचनी] विद्या-विशेष (सुर १३, ८१)।

उम्ह पुव्ही [ऊम्मन्] १ सताप, गरमी, उष्णता, 'शरीरउम्हाए जीवइ सयावि' (उप ५६७ टी, णाया १, १, कुमा)। २ भाफ, वाष्प (से २, ३२, हे २, ७४)।

उम्हइअ } वि [ऊष्मायित] सतप्त, गरम
उम्हविय } किया हुआ (से ४, १, पउम २, ६६, गउट)।

उम्हाअ अक [ऊष्माय्] १ गरम होना। २ भाफ निकालना। वक्क उम्हाअत, उम्हाअमाण (से ६, १०, पि ५५८)।

उम्हाल वि [ऊष्मवत्] १ गरम, परितप्त। २ वाष्प युक्त (गउड)।

उम्हाविअ न [दे] सुरत, सभोग (दे १, ११७)।

उपचिय वि [दे] देखो उविअ = परिकर्मित, 'उयचियसोमदुयुल्लपट्टपडिच्छणणे' (णाया १, १—पय १३)।

उपट्ट देवो उव्वट्ट = उद् + वृत्। उयट्टंति, भूषा उयट्टिमु (भग)।

उपट्ट देवो उव्वट्ट = उद्धृत।

उपत्त अक [अप + वृत्] हटना। उय-नति (वा ३, १ टी)।

उपर वि [उदार] श्रेष्ठ, उत्तम, 'देवा भवति विननायरातिवृत्ता' (पउम १०, ८८)।

उपरिया व्ही [अपवरिका] छोटा कमरा (सम्मत् ११६)।

उपरिय देवो उविअ = (दे) (राय ६३ टी)।

२२

उयाइय न [उपयाचित] मनौती (सुपा ८, ५७८)।

उयाय वि [उपयात] उपगत (राज)।

उयारण न [अवतारण] निछावर, उतारा, हर्ष-दान, गुजराती मे 'उवारणु' (कुप्र ६५)।

उयाहु देखो उदाहु (सुर १२, ५६, काल, विसे १६१०)।

उययकिअ वि [दे] इकट्टा किया हुआ (षड्)।

उययल वि [दे] अघ्यासित, आरूढ (षड्)।

उर पुन [उरस्] वक्ष स्थल, छाती (हे १, ३२)। °अ, °ग पुव्ही [°ग] सर्प, साँप (काप्र १७१),

'उरगगिरिजलणसागरनह-

तलतणणसमो अ जो होइ।

भमरमियधरिणजलरुहरविपव-

णसमो अ सो समणो।' (अणु)।

°तव पु [°तपस्] तप-विशेष (ठा ४)।

°त्थ न [°ास्त्र] अस्त्र-विशेष, जिसके फेंकने

से शत्रु सर्पों से वेष्टित होता है (पउम ७१, ६६)। °परिसप्प पुव्ही [°परिसर्प] पेट

से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०)।

°सुत्तिया व्ही [°सूत्रिका] मोतियो की हार

(राज)।

उर न [दे] आरम्भ, प्रारम्भ (दे १, ८६)।

उरउरेण अ [दे] साक्षात् (विपा १, ३)।

उरत्त वि [दे] खरिडत, विदारित (दे १, ६०)।

उरत्थ वि [उरस्थ] १ छाती मे स्थित। २

छाती मे पहनने का आभूषण (आचा २, १३, १)।

उरत्थय न [दे] वर्म, वस्त्र, कवच (पाअ)।

उरउभ पव्ही [उरअ] मेप, भेड (णाया १, १, परह १, १)।

उरउभिअ वि [औरभ्रिक] भेड चरानेवाला

(सूअ २, २, २८)।

उराउभज्ज } वि [उरभ्रीय] १ मेप-सम्बन्धी।

उरउभिय } २ उत्तराध्ययन सूत्र का एक

अध्ययन, 'ततो समुद्धियमेय उरउभिज्जति

अज्जयण' (उत्तनि, राज)।

उरय पु [उरज] वनस्पति-विशेष (राज)।

उररि पु [दे] पशु, बकरा (दे १, ८८)।

उरल देखो उराल (कम्म १, भाग ६ २२)।

उरविय वि [दे] १ आरोपित। २ खरिडत, छिन्न (षड्)।

उरसिज पुं [उरसिज] स्तन, थन (धर्मवि ६६)।

उरस्स वि [उरस्य] १ सन्तान, वच्चा (ठा १०)। २ हार्दिक, आभ्यन्तर, 'उरस्सवल-समणणाय' (राय)।

उराल वि [उदार] १ प्रबल (राय)। २ प्रधान, मुख्य (सुज्ज १)। ३ सुन्दर, श्रेष्ठ (सूअ १, ६)। ४ अद्भुत (चन्द २०)। ५ विशाल, विस्तीर्ण (ठा ५)। ६ न शरीर-विशेष, मनुष्य और तिर्यक्चू (पशु पक्षी) इन दोनों का शरीर (अणु)।

उराल वि [उदार] स्थूल, मोटा (सूअ १, १, ४, ६)।

उराल वि [दे] भयकर, भौष्म (सुज्ज १)।

उरालिय न [औदारिक] शरीर-विशेष (सण)।

उरिआ व्ही [उड्डिका] लिपि-विशेष (सम ३५)।

उरितिय न [दे उरसि-त्रिक] तीन सर-वाला हार (औप)।

°उरिस देखो पुरिस (गा २८२)।

उरु वि [उरु] विशाल, विस्तीर्ण (पाअ)।

उरुपुल्ल पु [दे] १ अपूप, पूआ। २ खिचवी (दे १, १३४)।

उरुमल्ल }
उरुमिल्ल } वि [दे] प्रेरित (षड्, दे १, १०८)।
उरुसोल्ल }

उरोरुह पु [उरोरुह] स्तन, थन (पव ६२)।

उरोरुह न [उरोरुह] १ स्तन, थन। २ जैन साध्वियो का उपकरण-विशेष (औव ३१७ भा)।

°उल देखो कुल (से १, २६, गा ११६, सुर ३, ४१, महा)।

उलय } पुंन [उलय] लुण-विशेष (सुपा
उलव } २८१, प्राप्र)।

उलवी व्ही [उलपी] लुण-विशेष, 'उलवी वीरण' (पाअ)।

उलिअ वि [दे] असकुचित नजरवाला, स्फार दृष्टि (दे १, ८८)।

उलित्त न [दे] ऊँचा कुँआ (दे १, ८६)।

°उलीण देखो कुलीण (गा २५३)।

उव्वट्टण न [उट्टर्त्तन] तुले से उसके बीज को अलग करना (पिंड ६०३) ।

उव्वट्टण न [अपवृत्तन] देखो उव्वट्टणा = अपवर्त्तना (विसे २५१४) ।

उव्वट्टणा बी [उट्टर्त्तना] ? मरण, शरीर से जीव का निकलना (ठा २, ३) । २ पार्वं का परिवर्त्तन (आव ४) । ३ जीव का एक प्रयत्न, जिससे कर्म-परमाणुओं की लघु स्थिति दीर्घ होती है, करण विशेष (भग ३१, ३२) ।

उव्वट्टणा बी [अपवर्त्तना] जीव का एक प्रयत्न जिससे कर्मों की दीर्घ स्थिति का ह्रास होता है (विसे २७१५ टी) ।

उव्वट्टिअ वि [उट्टवर्त्तित] साफ किया हुआ, प्रमाजित, 'करीसेण वावि उव्वट्टिअ' (पिंड २७६) ।

उव्वट्टिय वि [उट्टवृत्त] किसी गति से बाहर निकला हुआ, मृत, 'आउक्खएण उव्वट्टिया समाणा' (पणह १, १) ।

उव्वट्टिय वि [उट्टवर्त्तित] ? जिसने किसी भी द्रव्य से शरीर पर का तेल वगैरह का मैल हूर किया हो वह, 'तत्रो तत्त्वट्टिओ' नेव अन्नमिओ उव्वट्टिओ उपहखलउदोहि पमजिओ' (महा) । २ प्रच्यवित, किसी पद से अट्ट किया हुआ (पिंड) ।

उव्वट्टिअ वि [उट्टवृत्त] वृद्धि प्राप्त (आवम) । उव्वण वि [उल्लवण] प्रचण्ड, उद्धट (उप घृ ७०, गउड, धम्म ११ टी) ।

उव्वत्त देखो उव्वट्ट = उट्ट + वृत् । उव्वत्तइ (पि २८६) । वक्क उव्वत्तंत, उव्वत्तमाण (से ५, ४२, स २५८, ६२७) । कवक्क उव्वत्तिज्जमाण (णाय १, ३) । सक्क उव्वत्तिवि (भवि) ।

उव्वत्त देखो उव्वट्ट (दे) ।

उव्वत्त सक [उट्ट + वर्त्तय्] ? खडा करना । २ उलटा करना । उव्वत्तित (पव ७१) सक्क उव्वत्तिया (दस ५, १, ६३) ।

उव्वत्त वि [उट्टवर्त्त] खडा करनेवाला (पव ७१) ।

उव्वत्त वि [उट्टवृत्त] ? उत्तान, चित्त (से ५, ६२) । २ उल्लसित (हे ४, ४३४) । ३ जिसने पार्वं को घुमाया हो वह (आव ३) ।

४ ऊर्ध्व-स्थित, 'सो उव्वत्तविसाणो खधवसभो जाओ' (महा) । ५ घुमाया हुआ, फिराया हुआ (प्राप) ।

उव्वत्त वि [अपवृत्त] उलटा रहा हुआ, विपरीत स्थित (से १, ६१) ।

उव्वत्तण न [उट्टवर्त्तन] ? पार्वं का परिवर्त्तन (गा २८३, निवृ ४) । २ ऊंचा रहना, ऊर्ध्व-वर्त्तंत (ओष १६ भा) ।

उव्वत्तिय वि [उट्टवर्त्तित] ? परिवर्त्तित, चक्राकार घुमा हुआ (स ८५), 'भमिय व वणतर्त्तहि उव्वत्तिय व सयलवणुहाए' (सुर १२, १६६) । उव्वट्ट देखो उव्वट्ट (महा) ।

उव्वम सक [उट्ट + वम्] उलटी करना, पीछा निकाल देना । वक्क उव्वमत (से ५, ६, गा ३४१) ।

उव्वमिअ वि [उट्टान्त] उलटी किया हुआ, वमन किया हुआ (पाअ) ।

उव्वर अक [उट्ट + वृ] शेष रहना, बच जाना, 'उम्हाए दंताए जमुव्वरेइ देज्जाह साहूए तमाथरेण' (उप २११ टी) । वक्क उव्वरत (नाट) ।

उव्वर पु [दे] धर्म, ताप (दे १ ८७) ।

उव्वरिअ वि [दे] ? अधिक, बचा हुआ, अवशिष्ट (दे १, १३२, पिग, गा ४७४, सुपा ११, ५३२, ओष १६८ भा) । २ अनीपित, अनभीष्ट । ३ निश्चित । ४ अगणित । ५ न ताप, गरमी (दे १, १३२) । ६ वि अतिक्रान्त, उल्लङ्घित, 'परदव्वहरणविरया निरयाइदुहाए ते खलुव्वरिया' (सुपा ३६८) ।

उव्वरिअ न [अपवर्त्तिका] कोठरी, छोटा घर (सुर १४, १७४) ।

उव्वल सक [उट्ट + वल] ? उपलेपन करना । २ पीछे लौटना । हेक्क उव्वलित्तए (कस) ।

उव्वल सक [उट्ट + वलय्] उन्मूलन करना । उव्वलए । वक्क उव्वलमाण (पव ५, १६६) ।

उव्वलण न [उट्टलन] ? शरीर का उपलेपन-विशेष (णाय १, १, १३) । २ मालिय, अभ्यङ्गन (वृह ३, औप) ।

उव्वलणा ली [उट्टलना] ? उन्मूलन । २ उट्टलन-योग्य कर्म-प्रकृति (पव ३, ३४) ।

उव्वलिय वि [उट्टलित] पीछे लौटा हुआ (महा) ।

उव्वस वि [उट्टस] उजाह, वसति रहित (सुपा १८८, ४०६) ।

उव्वसिय वि [उट्टसित] ऊपर देखो (गा १६४ सुर २, ११६, सुपा ५४१) ।

उव्वसी बी [उव्वशी] ? एक अणुपरा (सण) । २ रावण की एक चरनाम-ख्यात पत्नी (पज्ज ७४, ८) ।

उव्वह सक [उट्ट + वह्] ? धारण करना । २ उठाना । उव्वहइ (महा) । वक्क उव्वहत्त, उव्वहमाण (पि ३६७, से ६, ५) । कवक्क उव्वउभमाण (णाय १, ६) ।

उव्वहण न [उट्टहन] ? धारण । २ उत्थापन । (गउड, नाट) ।

उव्वहण न [दे] महान् आदेश (दे १, ११०) ।

उव्वा बी [दे] धर्म, ताप (दे १, ८७) ।

उव्वा } अक [उट्ट + वा] ? सूखना,
उव्वाअ } शुष्क होना । उव्वाइ, उव्वाअइ (पड, हे ४, २४०) ।

उव्वाअ वि [उट्टात] शुष्क, सूखा (गउड) ।

उव्वाअ } वि [दे] खिन्न, परिश्रान्त (दे १,
उव्वाअइ } १०२, वृह १, वव ४, पाप, गा ७५८, सुपा ४३६) ।

उव्वाउल न [दे] ? गीत । २ उपवन, वगीचा (दे १, १३४) ।

उव्वाडुल न [दे] ? विपरीत मुक्त । २ मर्त्यादा-रहित मैथुन (दे १, १३३) ।

उव्वाड वि [दे] ? विस्तीर्ण, विशाल । २ दु खरहित (दे १, १२६) ।

उव्वाण देखो उव्वाअ = उट्टात (सुर १६६) । उव्वाय देखो उट्टाय = उपाय (सूय १, ४, १, २) ।

उव्वार (अप) सक [उट्ट + वर्त्तय्] याग करना, छोड देना । धर्म, उव्वारिअइ (हे ४, ४३८) ।

उव्वाल सक [कथ्] बहना, बौनना । उव्वानइ (पड) ।

उव्वास सक [उट्ट + वासय्] ? हूर करना । २ देशनिकाला करना । ३ उगाड करना । उव्वामइ (नाट, पिग) ।

उव्वासिय वि [उट्टासित] ? उगाड किया हुआ (पउम २७, ११) । २ उट्टा-याहूर

उल्लाल पुन [उल्लाल] छन्द-विशेष (पिंग) ।
 उल्लालिअ वि [उल्लामित] २ ऊँचा किया
 हुआ, ऊपर फँका हुआ (कुमा, हे ४,
 ४२२) ।
 उल्लालिय वि [उल्लालित] ताडित (राज) ।
 उल्लाव सक [उत् + लप्, लापय्] १
 कहना, बोलना । २ बकवाद करना । ३
 बुलवाना । ४ बकवाद कराना । वक्तु
 उल्लावत, उल्लावैत (से ११, १०, गा
 ५३६, ६५१, हे २, १६३) ।
 उल्लाव पु [उल्लाप] १ शब्द, आवाज (से
 १, ३०) । २ उत्तर, जवाब (शोध ५६ भा,
 गा ५१४) । ३ बकवाद, विकृत वचन । ४
 उक्ति, कथन (पद्य ७०, ५८) । ५ समावेश,
 'नयणोहि को न दीसइ,
 केण समाण न होति उल्लावा ।
 हिययाणद ज पुण,
 जणोइ त माणुस विरल ॥' (महा) ।
 उल्लाविअ वि [उल्लापित] १ उक्त, कथित ।
 २ न उक्ति, वचन (गा ५८६) ।
 उल्लाविर वि [उल्लापित्] १ बोलनेवाला,
 भाषक (हे २, १६३, सुपा २२६) ।
 उल्लासग वि [उल्लासक] १ विकसित होने-
 वाला । २ आनन्दजनक (श्रा २७) ।
 उल्लासण न [उल्लासन] विकास (सिचि
 ५३६) ।
 उल्लासि } वि [उल्लासिन्] ऊपर देखो
 उल्लासिर } (कप्प, लहुम १, प्रासू ६६) ।
 उल्लाह मक [उत् + लाघय्] कम करना,
 हीन करना । वक्तु उल्लाहअत (उत्तर
 ६१) ।
 उल्लिअ वि [दे] उपसर्पित, उपागत
 (पङ्) ।
 उल्लिअ वि [आद्रित] गीला किया हुआ
 (गउउ, हे ३, १६) ।
 उल्लिअ वि [दे] १ चीरा हुआ, फाड़ा हुआ
 (उत्त १६, ६४) । २ उपालम्ब, उलाहना
 दिया हुआ (सम्मत ५२) ।
 उल्लिच सक [उद् + रिच्] घाली करना ।
 हेइ उल्लिचिऊण य समत्थो हत्यउडोहि
 म्मुद' (पुफ ४०) ।
 उल्लिचिय नि [दे] उद्रित, घाली किया
 हुआ,

'तह नाहिवहो जुवणणयोए
 लायलवारिणा भरिओ ।
 नहु निदुइ जह उल्लिचिओवि
 पियनयणकलसेहि' (सुपा ३३) ।
 उल्लिक न [दे] दुश्चेष्टित, खराब चेष्टा
 (षड्) ।
 उल्लिगण वि [उल्लिङ्गन] उपदर्शक (पव
 १) ।
 उल्लिपण न [उपलेपन] उपलेप (पिड
 ३५०) ।
 उल्लिया स्त्री [दे] राधा-देव का निशाना,
 'विधेयव्वा विवरीयभमतदचककोवरिथिउल्लिया'
 (स १६२) ।
 उल्लिर वि [आर्द्र] गीला (वज्जा ११२) ।
 उल्लिह सक [उद् + लिह्] १ चाटना ।
 २ खाना, भक्षण करना, 'उक्खलिउरिहमुररी
 उम रोरघरम्मि उल्लिहइ' (दे १, ८८) ।
 उल्लिह सक [उद् + लिख्] १ रेखा
 करना २ लिखना । ३ घिसना ।
 उल्लिहण न [उल्लोखन] १ घर्षण (सुपा
 ४८) । २ विलेखन, 'वहुआइ नहुल्लिहणे'
 (हे १, ७) ।
 उल्लिहिय वि [उल्लिखित] १ घृष्ट, घिसा
 हुआ (साया १, २) । २ छिला हुआ,
 तक्षित (पात्र) । ३ रेखा किया हुआ (सुपा
 १६३, प्रासू ७) ।
 उल्ली स्त्री [दे] १ चूल्हा (दे १, ८७) । २
 दाँत का मेल, 'उल्ली दतेसु दुग्घा' (महा) ।
 उल्लीण वि [उपलीन] प्रच्छन्न, गुप्त
 (आवा २, २, ३, ११) ।
 उल्लुअ वि [दे] १ पुरस्कृत, आगे किया
 हुआ । २ रक्त, रँगा हुआ (षड्) ।
 उल्लुअ वि [दे] उद्भूत उदय-प्राप्त (प्राक्
 ७७) ।
 उल्लुअ वि [उल्लून] १ उन्मूलित । २ न
 उन्मूलन (प्राक् ७०) ।
 उल्लुचिअ वि [उल्लुच्चित] उखाड़ा हुआ,
 उन्मूलित, 'मुट्टोहि कुवलकलावा उल्लुचिया'
 (सुपा ८०, प्रवो ६८) ।
 उल्लुटिअ वि [दे] सङ्घर्षित, टुकड़ा-टुकड़ा
 किया हुआ (दे १, १०९) ।

उल्लुठ वि [उल्लुण्ठ] उल्लंठ, उद्धत (सुपा
 ४६५, सुर ६, २१५) ।
 उल्लुड अक [वि + रेचय्] भरना,
 टपकना, बाहर निकलना । उल्लुडइ (हे ४,
 २६) । प्रयो वक्तु उल्लुडावत (कुमा) ।
 उल्लुक वि [दे] युटित, हटा हुआ (दे १,
 ६२) ।
 उल्लुक सक [तुड्] तोडना । उल्लुकइ
 (हे १, ११६, षड्) ।
 उल्लुकिअ वि [तुडित] त्रोटित, तोडा
 हुआ (कुमा) ।
 उल्लुगा } स्त्री [उल्लुका] १ नदी-विशेष
 उल्लुगा } (विसे २४२६) । २ उल्लुका नदी
 के किनारे का प्रदेश (विसे २४२५) । ३ तीर
 न [तीर] उल्लुका नदी के किनारे बसा
 हुआ एक नगर (विसे २४२४, भग २६, ३) ।
 उल्लुज्झण न [दे] पुनरुत्थान, कटे हुए हाथ
 पाँव की फिर से उत्पत्ति (उप ३८१) ।
 उल्लुट्ट अक [उत् + लुट्] नष्ट होना,
 ध्वंस पाना । वक्तु 'तहवि य सा रायसिरी
 उल्लुट्टी न ताइया ताहि' (उव) ।
 उल्लुट्ट वि [दे] मिथ्या, असत्य, झूठा (दे १,
 ८६) ।
 उल्लुरुह पु [दे] छोटा शङ्ख (दे १, १०५) ।
 उल्लुलिअ वि [उल्लुलित] चलित (गा
 ५६७) ।
 उल्लुव देखो उल्लव = उद् + वृ । उल्लुवइ,
 सक्र, उल्लुविऊण (प्राक् ६६) ।
 उल्लुह अक [निस् + सृ] निकला । उल्लुहइ
 (हे ४, २५६) ।
 उल्लुहुडिअ वि [दे] उन्नत, उच्छिन्न (पङ्) ।
 उल्लुड वि [दे] १ आरूढ (दे १, १००,
 पङ्) । २ अड, कुरित (दे १, १००, पात्र) ।
 उल्लुड सक [आ + रुह्] चढना ।
 उल्लुडइ (प्राक् ७३) ।
 उल्लूर सक [तुड्] १ तोडना । २ नाश
 करना । उल्लूरइ (हे ४, ११६, कुमा) ।
 उल्लूरण न [तोडन] छेदन, खरडन (गा
 १६६) ।
 उल्लूरिअ वि [तुडित] विनाशित, 'उल्लूरिअ-
 पहिअसत्थेसु' (णमि १०, पात्र) ।
 उल्लूह वि [दे] शुष्क, सूखा, 'उल्लूह च
 नलवण हरिय जाय' (शोध ४४६ टी) ।

जाना । ४ अक, फैलना, पसरना । वक्र
उन्वेत्लत (पि १०७) ।

उन्वेत्ल वि [उद्देवेल] १ उच्छलित, उछला
हुआ, 'उन्वेत्ला सलिलनिही' (पउम ६, ७२) ।
२ प्रसृत, फैला हुआ (पात्र) । ३ उद्भिन्न,
'हरिसवसुन्वेत्लपुतयाए' (स ६२५) ।

उन्वेत्लिअ वि [उद्देवेल्लित] १ कम्पित
(गा ६०५) । २ उत्सारित (बृह ३) । ३
प्रसारित (स ३३५) ।

उन्वेत्लिअ वि [उद्देवेल्लित्] सत्वर जाने-
वाला (कुमा) ।

उन्वेव देखो उन्विन्न । उन्वेवद् (पड्) ।
उन्वेव देखो उन्वेग (कुमा, सुर ४, ३६,
११, १६४) ।

उन्वेवग वि [उद्देवजक] उद्देवग कारक,
'थदा छिह्पेही, अवनवाई समयम्मई चवला ।
वका कोहणसीला, सीसा उन्वेवगा गुष्णा'
(उव) ।

उन्वेवणय वि [उद्देवजनक] उद्देवग-जतक
(पञ्च ४५) ।

उन्वेवय देखो उन्वेवग (स २६२) ।

उन्वेसर पु [उन्वेश्वर] इस नामका एक
राजा (कुमा) ।

उन्वेह पुं [उद्देवेध] १ ऊँचाई (सम १०४) ।
२ गहराई (ठा १०) । ३ जमीन का अवगाह
(ठा १०) ।

उन्वेहलिया स्त्री [उद्देवधलिका] वनस्पति-
विशेष (परण १) ।

उसड्डु वि [दे] ऊँचा (राय) ।

उसढ देखो ऊसढ = दे (पव २) ।

उसण पु [उशनस्] ग्रह-विशेष, शुक,
भार्गव (पात्र) ।

उसणसेण पु [दे] बलभद्र (दे १, ११८) ।

उसत्त वि [उत्सक्त] ऊपर बँधा हुआ (णया
१, १) ।

उसन्न पुं [उत्सन्न] ऋट् यति-विशेष की एक
जाति (सं ६१) ।

उसत्पिणी देखो उत्सत्पिणी (जी ४०, विसे
२७०६) ।

उसभ पुन [वृपभ] एक देव-विमान (देवेन्द्र
१४०) ।

उसभ पुं [ऋपभ, वृपभ] १ स्वनाम-
ख्यात प्रथम जिनदेव (सम ४३, कप्प) । २
बैल, साँड (जीव ३) । ३ वेष्टन-पट्ट (पव
२१६) । ४ देव-विशेष (ठा ८) । ५ ब्राह्मण-
विशेष (उत्त १) । ६ कंठ पु [कण्ठ] १ बैल
का गला । २ रत्न विशेष (जीव ३) । ३ कूड
पु [कूट] पर्वत-विशेष (ठा ८) । ४ णाराय
न [नाराच] सहनन-विशेष, शरीर-बन्ध-
विशेष (पच) । ५ दत्त पु [दत्त] ब्राह्मण-
कुण्ड ग्राम का रहनेवाला एक ब्राह्मण,
जिसके घर भगवान् महावीर अवतरे थे
(कप्प) । ६ पुर न [पुर] नगर-विशेष (विपा
२, २) । ७ पुरी स्त्री [पुरी] एक राजधानी
(ठा ८) । ८ सेण पुं [सेन] भगवान् श्रवभ-
देव के प्रथम गणपति (आच १) ।

उसर (पै) पुं स्त्री [उष्ट्र] ऊँट (पि २५६) ।

उसलिअ वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित
(पड्) ।

उसह् देखो उसभ (हे १, १३१, १३३,
१४१, पड्, कुमा, सम १५२, पउम ४,
३५) ।

उसहसेण पु [वृपभसेन] तीर्थंकर-विशेष ।
२ जिनदेव की एक शाश्वती प्रतिमा (पव
५६) ।

उसा अ [उपस्] प्रभात-काल (गउड) ।

उसिण वि [उष्ण] गरम, तप्त (कप्प ठा ३,
१) । ३ पुन गरम स्पर्श (उत्त १) । ३ गरमी,
ताप (उत्त २) ।

उसिय वि [उत्सृत] व्याप्त, फैला हुआ (सम
१३७) ।

उसिय वि [उपित] रहा हुआ, निवसित (से
८, ६३, अत्त १२८) ।

उसिर देखो उसीर = उशीर (सूत्र १, ४,
२, ८) ।

उसीर न [उशीर] सुगन्धि तृण-विशेष, खरा
(परह २, ५) ।

उसीर न [दे] कमल दण्ड, किस (दे १,
६४) ।

उसु पु [इषु] १ बाण, शर (सूत्र १, ५,
१) । २ धनुस्कार लेन का बाण-स्थानीय
क्षेत्र परिमाण ।

'धनुस्काराग्रे नियमा, जीवावग विसोहृत्ताए ।
सेसत्त डट्टभागे, ज मूल त उसू होई'
(जी १) । ३ कार, गार, यार पु [कार]
१ पर्वत-विशेष (सम ६६, ठा २, ३, रात्र) ।
२ इस नाम का एक राजा । ३ स्वनाम-ख्यात
एक पुरोहित (उत्त १४) । ४ वि बाण
बनानेवाला (राज) । ५ स्वनाम-ख्यात एक
नगर (उत्त १४) ।

उसुअ पु [दे] दौप, दूपण (दे १, ८६) ।

उसुअ न [इषुक] १ बाण के आकार का
एक आभूषण । २ तिलक (पिड ४२४) ।

उसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित (सुपा
२२४) ।

उसुयाल न [दे] उदूखल (राज) ।

उसुला पु [दे] परिखा, शत्रु-नैय का नाश
करने के लिए ऊपर से आच्छादित गत्त-विशेष
(उत्त ६) ।

उत्स पु [दे] हिम, ओस, 'अपहरिणु अणु-
स्तेषु' (बृह ४) ।

उत्सकलिअ वि [उत्सकलिन] निचष्ट, परि-
व्यक्त (आचा २) ।

उत्सखलअ वि [उत्सखलक] उच्छ्रद्धल,
निरकुश (पि २१३) ।

उत्सग पु [उत्सङ्ग] क्रोड, कोला या दौप
(नाट) ।

उत्सघट्ट वि [उत्सघट्ट] शरीर-स्पर्श से रहित
(उप ५५५) ।

उत्सकक प्रक [उत् + ष्वक] १ उन्नत
होना । २ पीछे हटना । ३ सक स्वगिन
करना । सक उत्सकइत्ता । प्रयो उत्सका-
वइत्ता (ठा ६) ।

उत्सककक [उत् + ष्वक] प्रदीप्त करना,
उत्तेजित करना । सक उत्सककिया (यावा
२, १, ७, २) ।

उत्सकण न [उत्सकण] किसी कार्य को
कुछ समय के लिये स्वगिन करना (धर्म ३) ।

उत्सकण न [उत्सकण] उत्तर्पण (पचा
१३, १०) ।

उत्सकिया वि [उत्सकिय] नियत काल के
बाद किया हुआ (पिड २६०) ।

उत्सग पु [उत्सग] १ ध्यान (आन ५) ।
२ सामान्य विधि (उप ७८१) ।

उवकरण देखो उवगरण (श्रौप) ।

उवकस सक [उप + कष्] प्राप्त होना,

'नारीण वसमुवकसति' (सूत्र १, ४) ।

उवकसिअ वि [दे] १ संनिहित । २ परिसे-

वित । ३ सजित, उत्पादित (दे १, १३८) ।

उवकार देखो उवगार (धर्मस ६२० टी) ।

उवकारिया देखो उवगारिया (राय ८२) ।

उवकिइ } स्त्री [उपकृति] उपकार (दे ४,
उवकिदि } ३४, ८, ४५) ।

उवकुल न [उपकुल] नक्षत्र-विशेष, श्रवण
श्रादि वारह (जं ७) ।

उवकुल पुन [उपकुल] कुल नक्षत्र के पास
वा नक्षत्र (सुज्ज १०, ५) ।

उवकोसा स्त्री [उपकोशा] एक गणिका,
कोशा वेश्या की छोटी बहिन (कुप्र ४५३) ।

उवकोसा स्त्री [उपकोशा] एक प्रसिद्ध वेश्या
(उव) ।

उवकत वि [उपक्रान्त] १ समीप मे आनीत ।
२ प्रारब्ध, प्रन्तावित (विसे ६८७) ।

उवकम सक [उप + क्रम्] १ शुरू करना,
प्रारम्भ करना । २ प्राप्त करना । ३ जानना ।

४ समीप मे लाना । ५ सस्कार करना ।

६ अनुसरण करना, 'सीसो गुण्यो भाव
जमुवकमए' (विसे ६२९), 'ता तुव्मे ताव
श्रवकमह लहु, जाव एयासि भावमुव-

कमामि ति' (महा), 'जेणोवकामि
ज्जइ समीवमाणज्जए' (विसे २०३६),

'जएण हलकुलिआईहि खेत्ताई उवकमिज्जति
मे त खेतोवकमे' (अणु) । वक उवकमत
(विसे ३४१८) ।

उवकम पु [उपक्रम] १ आरम्भ, प्रारम्भ ।

२ प्राणि का प्रयत्न, 'सोच्चा भगवाणुसासए
सन्चे तय वरेज्जुवकम' (सूत्र १, २,
३, १४) । ३ कर्मों के फल का अनुभव

(सूत्र १, ३, भग १, ४) । ४ कर्मों की
परिणति वा कारण-भूत जीव का प्रयत्न-

विशेष (ठा ४, २) । ५ मरण, मौत, विनाश,
'दृज्ज इयमि मए उवकमो जीवियस्स जइ
मग्ग' (आउ १५, वृह ४) । ६ दूरस्थित
को समीप मे लाना; 'मत्यस्सोवकमए
उवकमो तेण तम्मि अ तथो वा सत्यमनी-

चोवरण' (विने, मणु) । ७ आयुष्य विधातक

वस्तु (ठा ४, २, स २८७) । ८ शक,
हथियार, 'भुम्माहारच्छेए उवकमेण च
परिणए' (धर्म २) । ९ उपचार (स २०५) ।

१० ज्ञान, निश्चय । ११ अनुवर्तन, अनुकूल-
प्रवृत्ति (विसे ६२६, ६३०) । १२ सस्कार,
परिकर्म, 'खेतोवकमे' (अणु) ।

उवकम पु [उपक्रम] अनुवित कर्मों को
उदय मे लाना (सूत्रनि ४७) ।

उवकमण न [उपक्रमण] उपर देखो (अणु,
उवर ४६, विसे ६११, ६१७, ६२१) ।

उवकमिय वि [ओपक्रमिक] उपक्रम से
सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४, सम १४५,
परण ३५) ।

उवकाम देखो उवकम = उप + क्रम् । कर्म
उवकामिज्जइ (विसे २०३६) ।

उवकाम सक [उप + क्रम्] दीर्घकाल मे
भोगने योग्य कर्मों को श्रवण समय मे ही
भोगना । कर्म उवकामिज्जइ (धर्मस
६४८) ।

उवकामण न [उपक्रमण] उपक्रम कराना
(श्रावक १६७) ।

उवकामण देखो उवकमण (विसे २०५०) ।

उवकसे पु [उपकलेश] १ बाधा । २ शोक
(राज) ।

उवकखड सक [उप + खड] १ पकाना,
रसोई करना । १ पाक को मसाले से
सस्कारित करना । उवकखडेइ, उवकखडिडि
(पि ५५६) । सक उवकखडेत्ता (आचा) ।
प्रयो उवकखडावेइ, उरकखडाविति (पि ५५६,
कप्प) । सक उवकखडावेत्ता (पि ५५६) ।

उवकखड } वि [उपस्कृत] १ पकाया
उवकखडिय } हुआ । २ मसाला वगैरह से
संस्कार-युक्त पकाया हुआ (निचू ८, पि ३०६,
५५६, उत १२, ११) । ३ पुन रसोई,
पाक, 'भणियामहाएसएरा जह अज्ज उव-

कखडो न कायव्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४, २,
एयाया १, ८, श्रौष ५४ भा) । ४ म वि
[म] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता
है वह, मूंग वगैरह अन्न-विशेष, 'उवकखडाम
एगम जहा चएयादीए उवकखडियाए जे ए
सिज्जति ते ककडुयाम उवकखडियाम भएणइ'
(निचू १५) ।

उवकखडेइ सक [उप + खडे] १ पकाना,
रसोई करना । १ पाक को मसाले से
सस्कारित करना । उवकखडेइ, उवकखडिडि
(पि ५५६) । सक उवकखडेत्ता (आचा) ।
प्रयो उवकखडावेइ, उरकखडाविति (पि ५५६,
कप्प) । सक उवकखडावेत्ता (पि ५५६) ।

उवकखडेइ } वि [उपस्कृत] १ पकाया
उवकखडिय } हुआ । २ मसाला वगैरह से
संस्कार-युक्त पकाया हुआ (निचू ८, पि ३०६,
५५६, उत १२, ११) । ३ पुन रसोई,
पाक, 'भणियामहाएसएरा जह अज्ज उव-

कखडो न कायव्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४, २,
एयाया १, ८, श्रौष ५४ भा) । ४ म वि
[म] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता
है वह, मूंग वगैरह अन्न-विशेष, 'उवकखडाम
एगम जहा चएयादीए उवकखडियाए जे ए
सिज्जति ते ककडुयाम उवकखडियाम भएणइ'
(निचू १५) ।

उवकखडेइ } वि [उपस्कृत] १ पकाया
उवकखडिय } हुआ । २ मसाला वगैरह से
संस्कार-युक्त पकाया हुआ (निचू ८, पि ३०६,
५५६, उत १२, ११) । ३ पुन रसोई,
पाक, 'भणियामहाएसएरा जह अज्ज उव-

कखडो न कायव्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४, २,
एयाया १, ८, श्रौष ५४ भा) । ४ म वि
[म] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता
है वह, मूंग वगैरह अन्न-विशेष, 'उवकखडाम
एगम जहा चएयादीए उवकखडियाए जे ए
सिज्जति ते ककडुयाम उवकखडियाम भएणइ'
(निचू १५) ।

उवकखडेइ } वि [उपस्कृत] १ पकाया
उवकखडिय } हुआ । २ मसाला वगैरह से
संस्कार-युक्त पकाया हुआ (निचू ८, पि ३०६,
५५६, उत १२, ११) । ३ पुन रसोई,
पाक, 'भणियामहाएसएरा जह अज्ज उव-

कखडो न कायव्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४, २,
एयाया १, ८, श्रौष ५४ भा) । ४ म वि
[म] पकाने पर भी जो कच्चा रह जाता
है वह, मूंग वगैरह अन्न-विशेष, 'उवकखडाम
एगम जहा चएयादीए उवकखडियाए जे ए
सिज्जति ते ककडुयाम उवकखडियाम भएणइ'
(निचू १५) ।

उवकखडेइ } वि [उपस्कृत] १ पकाया
उवकखडिय } हुआ । २ मसाला वगैरह से
संस्कार-युक्त पकाया हुआ (निचू ८, पि ३०६,
५५६, उत १२, ११) । ३ पुन रसोई,
पाक, 'भणियामहाएसएरा जह अज्ज उव-

उवकखर पु [उपस्कर] १ संस्कार । २ जिससे
संस्कार किया जाय वह (ठा ४, २) ।

उवकखर पु [उपस्कर] घर का उपकरण,
साधन (सूत्रनि ५) ।

उवकखरण न [उपस्करण] ऊपर देखो ।
'साला स्त्री [शाला] रसोई-घर, पाक-

गृह (निचू ६) ।

उवकखा सक [उपा + खया] कहना । कर्म
उवकखाइज्जति (सूत्र २, ४, १०, भग १६,
३—पत्र ७६२) ।

उवकखा स्त्री [उपाख्या] उपनाम (धर्मसं
७२७) ।

उवकखाइत्तु वि [उपख्यापयित्तु] प्रसिद्धि
करानेवाला, 'अत्ताए उवकखाइत्ता भवई'
(सूत्र २, २, २६) ।

उवकखाइया स्त्री [उपाख्यायिका] उपकथा,
अवान्तर कथा (सम ११६) ।

उवकखाण न [उपाख्याण] उपाख्याण,
कथा (पउम ३३, १४६) ।

उवकखत्त वि [उपक्षिप्त] प्रारब्ध, शुरु किया
हुआ (मुद्रा ९३) ।

उवकखिव सक [उप + क्षिप्] १ स्थापन
करना । २ प्रयत्न करना । ३ प्रारम्भ करना ।

उवकखिव (पि ३१६) ।

उवकखीण वि [उपक्षीण] क्षय-प्राप्त (धर्मवि
४२) ।

उवकखेअ पु [उपक्षेप] १ प्रयत्न, उद्योग ।
२ उपाय, 'ए भणामि तस्सिं साहणिज्जे
किदो उवकखेओ' (मा ३६) ।

उवकखेव पु [दे उपक्षेप] बालोत्पादन,
मुएडन (तट्टु १७) ।

उवग वि [उपग] १ अनुसरण करनेवाला
(उप २४३, श्रौप) । २ समीप मे जानेवाला
(विसे २५६५) ।

उवगच्छ सक [उप + गम्] १ समीप मे
आना । २ प्राप्त करना । ३ जानना । ४
स्वीकार करना । उवगच्छइ (उव, स २३७) ।

उवगच्छति (पि ५८२) । सक उवगच्छि-
ऊण (स ४४) ।

उवगणिय वि [उपगणित] गिना हुआ,
सख्यात, परिणित (स ४६१) ।

उवगपिय वि [उपकल्पित] विरचित (स
७२१)

°कर वि [°कर] उल्लेख-जनक (राया १, १)।
 उस्सूण वि [उच्छून] सूजा हुआ, फूला हुआ (उप ५६४, गउड, स २०३)।
 उस्सूर न [उत्सूर] सन्ध्या, शाम, 'वचामो नियनयरे उत्सूर वट्टए जेण' (सूर ७, ६३, उप ५ २२०)।
 उस्सेअ पु [उत्सेअ] १ सिचन । २ उन्नति । ३ गर्व (चार ४५)।
 उस्सेइम वि [उत्सेइम] आटा से मिश्रित पानी, आटा-धोया जल (कप, ठा ३, ३)।

उस्सेह पु [उत्सेध] १ ऊँचाई (विपा १, १)।
 २ शिखर, टोच (जीव ३)। ३ उन्नति, अम्यु-
 दय, 'पडणता उस्सेहा' (स ३६६)।
 उस्सेहगुल न [उत्सेघाडगुल] एक प्रकार
 का परिमाण (विसे ३४० टी)।
 उह स [उभ] दोनों, युग्म, युगल (पड्)।
 उहट्ट घक [अप + घट्ट] नष्ट होना।
 उहट्टइ (सम्मत १६२)।
 उहट्टु देवो उव्वट्टु = उद् + वृत्।
 उहय न [उभय] दोनों, युग्म (कुमा, भवि)।

उहर न [उपगृह] छोटा घर, आश्रय-विशेष
 (परह १, १)।
 उहस सक [उप + हस्] उपहास करना।
 उहसइ (प्राक ३४)।
 उहार पु [उहार] मत्स्य विशेष (राज)।
 उहिजल पु [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु विशेष
 (सुख ३६, १४६)।
 उहिजलिआ ली [दे] ऊपर देखो (उत ३६,
 १४६)।
 उहु (अप) देखो अहो = ग्रहो (सण)।
 उहुर वि [दे] अवाड्-मुख, अघोमुख (गउड)।

॥ इअ सिरिपाइअसहमहणवे उअराइसहसकलणो
 णाम पचमो तरणो समत्तो ॥

ऊ

ऊ पु [ऊ] प्राकृत वर्णमाला का षष्ठ स्वर-
 वर्ण (हे १, १, प्रामा)।
 ऊ अ [दे] निम्नलिखित अर्थों का सूचक
 अक्षय—१ गर्हा, निन्दा, 'ऊ णिल्लज'।
 २ आक्षेप, प्रस्तुत वाक्य के विपरीत अर्थ की
 आशयका से उसे उलटाना, 'ऊ कि मए
 भणियअ'। ३ विस्मय, आश्चर्य, 'ऊ कह
 मुणिया अहय'। ४ सूचना, 'ऊ केण ए
 विरणाय' (हे २, १६६, पड्)।
 ऊअट्ट वि [अववृट्ट] वृष्टि से नष्ट (पात्र)।
 ऊआ ली [दे] युका, बूँ (दे १, १३६)।
 ऊआस पु [उपवास] भोजनाभाव (हे १,
 १७३)।
 ऊग वि [दे] अलकृत (पड्)।
 ऊगमाअ देवो उव्वमाय (हे १, १७३,
 प्रामा)।
 °ऊड देवो कूड (से १२, ७८, गा ५८३)।
 ऊड वि [ऊड] वहन किया हुआ, धारण
 किया हुआ, 'ऊडकल वण्णएपरिमलेसु सुरभ-
 विरसेसु' (गउड)।
 ऊड वि [ऊड] परिणीत, विवाहित (धर्मस
 १३६०)।

ऊडा ली [ऊडा] विवाहिता ली (पात्र)।
 ऊडिअय वि [दे] १ प्रावृत्त, आच्छादित।
 २.न आच्छादन, प्रावरण (पात्र)।
 ऊण वि [ऊण] न्यून, हीन (पठम ११८,
 ११६)। °वीसइम वि [°विशतितम] उन्नी-
 सचां (पठम १६, ८०)।
 ऊण न [ऊण] ऋण, करजा (नाट)।
 ऊणदिअ वि [दे] आनन्दित, हर्षित (दे १,
 १४१, पड्)।
 ऊणिमा ली [पूर्णिमा] पूर्णिमा, तम्रो तीए
 चेव ऊणिमाए भरिऊण भंडस्म वहणाइ
 पत्थियो पारसउल' (महा)।
 ऊणिय वि [ऊणित] कम किया हुआ (ज
 २)।
 ऊणिय पु [ऊणिऊ] सेवक-विशेष (प्रग्गव्या०
 पत्र १३)।
 ऊणोयरिआ ली [ऊनोदरिता] कम आहार
 करना, तर विशेष (भग २५, ७, नव २८)।
 ऊतालीस } ली न [एक्कोनचत्वारिंशत्]
 ऊयाल } उन्नात्तोलम, ३६ (मुज २, ३,
 पत्र ५२, देवेन्न २६४)।

ऊमिगण न [दे] प्रोक्षणक, चुपना (धर्म २)।
 ऊमिणिय वि [दे] प्रोच्छिन्न, जिसने लान
 के बाद शरीर पोछा हो वह (न ७५)।
 ऊमिन्तिअ न [दे] दोनों पारवों में आधात
 करना (दे १, १४२)।
 ऊर पु [दे] १ ग्राम, गाँव। २ सप, सपूह
 (दे १, १४३)।
 °ऊर देवो तूर (मे ८, ६५)।
 °ऊर देवो पूर (से ८, ६५, गा ४५, २३१)।
 ऊरण पु [ऊरण] मेप, नेड (राय, विने)।
 ऊरणी ली [दे] मेप, नेड (दे १, १४०)।
 ऊरणीअ वि [ओरणिऊ] नेडी चरानेवाला
 (अणु १४४)।
 °ऊरय वि [पूरऊ] पूर्ति करनेवाला (भवि)।
 ऊरस वि [ओरस] पुत्र-विशेष, न्य-पुत्र
 (वा १०)।
 ऊरिसकिअ वि [दे] न्य, रोका हुआ (प)।
 ऊरो घ [ऊरो] १ अगोकार । २ विस्तार।
 °ऊय वि [°श्रुत्] अघोउज, न्घोउज (न
 ७२८ वे)।
 ऊर पु [ऊर] ऊरु, जाप (गामा १, १८)

उचि सक [उप + चि] ? इकट्टा करना ।
२ गृह करना । उचिणइ, उचिणइ, उचि-
विणति। भूका उचिणिसु । भवि उचि-
णिसति (ठा २, ४, भग) । कर्म उचि-
णइ, उचिणजति (भग) ।

उचिट्ट सक [उप + स्था] उपस्थित होना,
समीन आना । उचिट्टे, उचिट्टेज्जा
(वि ४६२) ।

उचिणिप्र देखो उचियि (धर्मवि १०६) ।

उचियि वि [उपचित] ? पुष्ट, पीन
(पणह १, ४, कप्प) । २ स्थापित, निवेशित
(कप्प, पणए २) । ३ उन्नति (श्रीप) । ४ व्याप्त
(अणु) । ५ वृद्ध, बड़ा हुआ (आत्वा) ।

उचिञ्जा स्त्री [उपस्यका] पर्वत के पास की
नीची जमीन (ती ११) ।

उचिच्छदिद (शौ) वि [उपच्छन्दित]
अभ्यषित (अभि १७३) ।

उचिजगल वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे १,
११६) ।

उचिजा अक [उप + जन्] उत्पन्न होना ।
उचिजायइ (विसे ३०२९) ।

उचिजाइ स्त्री [उपजाति] छन्द-विशेष (पिंग) ।

उचिजाइय देखो उचियाइय (आद्ध १६, सुपा
३५४) ।

उचिजाय वि [उपजात] उत्पन्न (सुपा ६००) ।

उचिजीव सक [उप + जीव] आश्रय लेना ।
उचिजीवइ (महा) ।

उचिजीवग वि [उपजीवरु] आश्रित (सुपा
११६) ।

उचिजीवि वि [उपजीविन्] ? आश्रय लेने-
वाला, 'न करेइ नेय पुच्छइ निद्धम्मा लिंग-
मुवजीवी' (उव) । २ उपकारक (विसे
२८८६) ।

उचिजोइय वि [उपज्योतिष्क] ? अग्नि के
समीप में रहनेवाला । २ पाक स्थान में स्थित,
'के इय पत्ता उचिजोइया वा अश्रभावया वा
मह गट्टिहि' (उत्त १२, १८) ।

उचिज्ज अक [उन् + पट्] उत्पन्न होना ।
उचिज्जति (सूत्र १, १, ३, १६) ।

उचिज्जण न [उपार्जन] पैदा करना, कमाना
(सुर ८, १४४) ।

उचिज्जिण सक [उप + अर्ज] उपार्जन
करना । उचिज्जिणमि (स ४४३) ।

उचिज्जमय पु [उपाध्याय] ? अध्यापक,
उचिज्जमाय पु पढानेवाला, (पउम ३६, ६०,
षड्) । २ सूत्राध्यापक जैन मुनि को दी जाती
एक पदवी (विसे) ।

उचिज्जिमय वि [दे] आकारित, बुलाया हुआ
(राज) ।

उचिज्जमाय देखो उचिज्जमाय (सिंरि ७७) ।

उचिज्जण देखो उचिज्जण (राज)

उचिज्जणा देखो उचिज्जणा (भग, विसे २५१५
टी) ।

उचिज्ज वि [उपस्थ] एक स्थान में सतत अव-
स्थित (वव ४) । °काल पु [°काल] आने
की बेला, अभ्यागत समय (वव ४) ।

उचिज्जभ पु [उपष्टम्भ] ? अवस्थान (भग) ।
२ अनुकम्पा, कल्याण (ठा २) ।

उचिज्जप वि [उपस्थाप्य] ? उपस्थित करने
योग्य । २ व्रत—दीक्षा के योग्य, 'वियत्त-
किच्चे सेहे य उचिज्जप्पा य आहिया' (बृह ६) ।

उचिज्जव सक [उप + स्थापय] युक्ति से
सस्थापित करना । उचिज्जवति (सूत्र २, १
२७) ।

उचिज्जव सक [उप + स्थापय] ? उपस्थित
करना । २ व्रतों का आरोपण करना, दीक्षा
देना । उचिज्जवेइ, उचिज्जवेह (महा, उवा) ।
हेक उचिज्जवेत्तए (बृह ४) ।

उचिज्जवणा स्त्री [उपस्थापना] ? चारित्र-
विशेष, एक प्रकार की जैन दीक्षा (धर्म २) ।
२ शिष्य में व्रत की स्थापना, 'वयट्टवरणमु
वट्टवणा' (पचभा) ।

उचिज्जवणीय वि [उपस्थापनीय] देखो
उपट्टप्य (ठा ३) ।

उचिज्जा सक [उप + स्था] उपस्थित होना ।
उचिज्जाएजा (भग) ।

उचिज्जाण न [उपस्थान] ? बैठना, उपवेशन
(णाय १, १) । २ व्रत-स्थापन (महानि ७) ।
३ एक ही स्थान में विशेष काल तक रहना
(वव ४) । °दोस पु [°दोष] नित्यवास्त
दोष (वव ४) । °साला स्त्री [°शाला]
आस्थान-भरण, सभा-स्थान (णाय १, १,
निर १, १) ।

उचिज्जाण न [उपस्थान] अनुष्ठान, आचार
(सूत्र १, १, ३, १४) ।

उचिज्जाणा स्त्री [उपस्थाना] जिसमें जैन साधु-
लोग एक बार ठहर कर फिर भी शास्त्र-
निषिद्ध-अवधि के पहले ही आकर ठहरे वह
स्थान (वव ४) ।

उचिज्जाव देखो उचिज्जव । उचिज्जावेहि (पि
४६८) । हेक उचिज्जावित्तए, उचिज्जावेत्तए
(ठा) ।

उचिज्जावणा देखो उचिज्जवणा (बृह ६) ।

उचिज्जिय वि [उपस्थित] ? प्राप्त, 'जरावाद-
मुवट्टिमो' (उत्त १२) २ समीप-स्थित (आव
१०) । ३ तैय्यार, उद्यत (धर्म ३) । ४
आश्रित, निम्नतमुवट्टिमो' (आउ, सूत्र १,
२) । ५ मुमुक्षु, प्रव्रज्या लेने को तैय्यार,
'उचिज्जिय पडिरय, सजय सुतवस्सिय ।

वुकम्म धम्माओ भसेइ, महामोह पकुव्वइ'
(सम ५१) ।

उचिज्जावणा देखो उचिज्जवणा (पचा १७, ३०) ।

उचिज्जहित्तु वि [उपदहित्तु] जलानेवाला,
'अगरिणकाएण कायमुवडहिता भवइ' (सूत्र
२, २) ।

उचिज्जिअ वि [दे] अवनत, नमा हुआ (षड्) ।

उचिज्जिणगर न [उपनगर] उपपुर, शाखा-नगर
(श्रीप) ।

उचिज्जिण सक [उप + नर्त्तय] नचाना,
नाच कराना । कवक उचिज्जिणमाणा
(श्रीप) ।

उचिज्जिण वि [उपनद्ध] घटित (उत्तर ११) ।

उचिज्जिण सक [उप + नम्] ? उपस्थित
करना, ला रखना । २ प्राप्त करना । उचि-
णमइ (महा) । वक, उचिज्जिणमत (उप १३६
टी, सूत्र १, २) ।

उचिज्जिणमिय वि [उपनमित] उपस्थापित
(सण) ।

उचिज्जिणय वि [उपनत] उपस्थित (से १, ३६) ।

उचिज्जिणय पु [उपनय] ? उपसहार, दृष्टान्त के
अर्थ को प्रकृत में जोड़ना, हेतु का पक्ष में
उपसहार (पच १६, श्रोष ४४ भा) । २
स्तुति, श्लाघा (विसे १४०३ टी, पव १४०) ।
३ अवान्तर नय (राज) । ४ सस्कार-विशेष,
उपनयन (स २७२) ।

ऊह सक [ऊह] १ तर्क करना । २ विचारना । ऊहइ (विसे ८३१), ऊहेमि (सुर ११, १८५) । संक्र. ऊहिऊण (आउ ५२) ।
ऊह न [ऊहस्] स्तन (विपा १, २) ।
ऊह पु [ऊह] १ विचार, विवेक-बुद्धि (राज) । २ तर्क, वितर्क (सुम २, ४) । ३

सख्या-विशेष (राज) । ४ शोध-सज्ञा, अव्यक्त ज्ञान (विसे ५२२, ४२३) ।
ऊहग न [ऊहाङ्ग] सख्या-विशेष (राज) ।
ऊहट्टु वि [दे] उपहसित (दे १, १४०) ।
ऊहसिय वि [उपहसित] जिसका उपहास किया गया हो वह (दे १, १४०) ।

ऊहा स्त्री [ऊहा] तर्क, विचार-बुद्धि (भावम) ।
ऊहापोह पु [ऊहापोह] सोच-विचार, मत में होनेवाला तर्क-वितर्क (कुप्र ६१) ।
ऊहिअ वि [ऊहित] अनुमान से ज्ञात (वि ६, ४२) ।
ए पु [ए] स्वर-वर्ण विशेष (हे १, १, प्रामा) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महण्णवे ऊआराइत्सकलणो
छट्टो तरगो समत्तो ॥

ए

ए पुं [ए] स्वर-वर्ण-विशेष (हे १, १, प्रामा) ।
ए अ [ए, ऐ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ आमन्त्रण, सम्बोधन, 'ए एहि सबडहुत्तो मज्झ' (पउम ८, १७४) । २ वाक्यालंकार, वाक्य-शोभा, 'से जहाएाम ए' (अणु) । ३ स्मरण । ४ असूया, ईर्ष्या । ५ अनुकम्पा, कल्याण । ६ आह्वान (हे २, २१७, भवि, गा ६०४) ।
ए सक [आ + इ] आना, आगमन करना ।
एह (उवा) । भवि एहिइ (उवा) । वहु एत (पउम ८, ४३, सुर ११, १४८), इत (सुर ३, १३), एज्जत (पि ५६१), एज्जमाण (उप ६४८ टी) ।
ए° देखो एत्तिअ (उवा) ।
ए° देखो एव (उवा) ।
एअ वि [एत्] आया हुआ, आगत (सम्मत्त ११६) ।
एअ स [एत्त] यह (भग, हे १, ११, महा) ।
°रिस वि [°रिअ] ऐसा, इसके जैसा (अ ३२) । °रूव वि [°रुप] ऐसा, इस प्रकार का (रागा १, १, महा) ।
एअ देखो एग (गउड, नाट, स्वप्न ६०, १०६) । °आइ वि [°किन्] अकेला (अभि १६०, प्रति ६५) । °रह वि व [°दशन्] ग्यारह की सख्या, दश और एक (पि २४५) । °रहम वि [°दश] ग्यारहवाँ (भवि) ।

एअ देखो एव = एव (कुमा) ।
एअ } देखो एव, 'एअ वि सिरिअ विट्ठमा'
एअ } (से ३, ४६, गउड, पिग) ।
एअंत देखो एकत (वेणी १८) ।
एआईस (अप) पु व [एकविशति] एककीस (पिग) ।
एयारिच्छ वि [एताइश] ऐसा, इसके जैसा (प्रामा) ।
एइज्जमाण देखो एय = एज् ।
एइय वि [एजित] कम्पित (राय ७४) ।
एइस देखो एईस (सुख २, १७) ।
एईस वि [एताइश] ऐसा (विसे २५४६) ।
एउजि (अप) अ [एवमेव] १ इसी तरह । २ यही (भवि) ।
एऊण देखो एगूण (पिग) ।
एत देखो इ = इ ।
एंत देखो ए = आ + इ ।
एक देखो एक तथा एग (पड्, सम ६६, पउम १०३, १७२, हेका ११६, परह २, ५, पउम ११४, २४, सुपा १६५, कप्प, सम ७१, १५३) । °इआ अ [°दा] एक समय में, कोई वस्तु (हे २, १६२) । °ल (अप) वि [°क] एकाकी (पि ५६५) । °लिय वि [°किन्] एकाकी, अकेला (उप ७२८ टी) । °णउइ स्त्री [°नवति] संख्या-विशेष, एकानवे (सम ६५, पि ४३५) ।

एकूण देखो अऊण = एकोन (सुज्ज १६) ।
एक देखो एक तथा एग (हे २, ६६, सुपा १४३, सम ६६, ५५, पउम ३१, १२८, गउड, कप्प, मा १८, सुपा ४८६, मा ४१, पि ५६५, नाट, रागा १, १, गा ६१८, काल, सुर ५, २४२, भग, सम ३६, पउम २१, ६३, कप्प) । °वए देखो एगए (गउड, सुर १, ३८) । °सणिय वि [°रा-निक] एक ही बार भोजन करनेवाला (परह २, १) । °सत्तरि स्त्री [°सत्तति] संख्या-विशेष, ७१, एकहत्तर (सम ८२) । °सरग, °सरय वि [°सरक, °सर्ग] एक समाज, एक सरोखा (उवा, भग १६, परह २, ५) । °सि अ [°शस्] एक वार, 'सव्वजहणां उदओ दमगुणियो एकसि कयाण' (भग) 'एकसि कओ पमाओ जीव पावेद भवगु इम्मि' (सुर ८, ११२), 'एकसि सीलवत्ति अह देज्जहि पन्थिताइ' (हे ८, ४२८) । °सि अ [°त्र] एक (किसी एक) में, 'एकसि न खु तियो सिति पिओ नीइवि उवालदो' (कुमा) । °सि, °सिअ अ [°दा] कोई एक समय में (हे २, १६२) । °सि अ [°शस्] एक वार (पि ४५१) । °इ वि [°किन्] अकेला (प्रयी २३) । °इ पु [°दि] स्वनाम-स्वात एक भाएउत्तिक (सुवा) (विपा १, १) । °णउय वि

उद्यद्दुअ वि [उपद्रुत] हैरान किया हुआ (मत १०५)।

उद्यधार पु [उपधातु] निकृष्ट धातु (सबोध ५३)।

उद्यधारणया स्त्री [उपधारणा] अद्यग्रह-ज्ञान (एदि १७४)।

उद्यधारणया स्त्री [उपधारणा] धारणा, धारण करना (ठा ८)।

उद्यधारिय वि [उपधारित] धारण किया हुआ (भग)।

उद्यनद पु [उपनन्द] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि (कप्प)।

उद्यनद सक [उप + नन्द] अभिनन्दन करना। क्वक उवनदिज्जमाण (कप्प)।

उद्यनगर देखो उद्यनयर (सुख २, १३)।

उद्यनयर देखो उद्यणयर (सुपा ३४१)।

उद्यनिक्रियत देखो उद्यणिक्रियत (कस)।

उद्यनिक्रियेव सक [उपनि + क्षेपय] १ धरोहर रखना। २ स्थापन करना। कृ उद्य-निम्बेवियव्व (कस)।

उद्यनिग्गय देखो उद्यणिग्गय (साया १, १)।

उद्यनिवण न [उपनिवणन] १ सवन्ध। २ वि सवन्ध-हेतु (विमे १६३६)।

उद्यनिमत देखो उद्यणिमत। उद्यनिमतेइ, उद्यनिमतेमि (कस, उवा)।

उद्यनिविट्ठ वि [उपनिविट्ठ] समीपस्थित (राय २७)।

उद्यनिहिय वि [उपनिहिय] देखो उद्यणि-हिय (पएह २, १)।

उद्यनत्थ वि [उपन्यस्त] स्थापित (स ३१०)।

उद्यन्यास पु [उपन्यास] निवेदन (दमनि १, ८२)।

उद्यपदाण } न [उपप्रदान] नीति-विशेष, उपपयाण } दान-नीति, अभिमत अर्थ का दान (निपा १, ३, साया १, १)।

उद्यपुय वि [उपप्लुत] उपद्रुत, भय से व्याप्त (राज)।

उद्यभुज सक [उप + भुज्] उपभोग करना, भोग में लाना। उद्यभुजइ (पइ)। वक्क उद्यभुज्ज (उप पृ १८८)। कक्क उअहु-ज्जंत, उद्यभुज्जंत (मे २, १०, मुग् ८, १६१)। क्क उद्यभुज्जण (महा)।

उद्यभुजण न [उपभोजन] उपभोग (सुपा १६)।

उद्यभुक्त वि [उपभुक्त] १ जिसका उपभोग किया हो वह (वव ३)। २ अधिकृत (उप पृ १२४)।

उद्यभोज } पु [उपभोग] १ भोजनातिरिक्त उद्यभोग } भोग, जिसका फिर-फिर भोग किया जाय जैसे-वज्ज-गृहादि, 'उद्यभोगो उ पुणो पुणो उद्यभुज्जइ भवणवलयाई' (उत्त ३३, अभि ३१)। २ जिसका एक बार भोग किया जाय वह, अशन, पान वगैरह (भग ७, २, पडि)।

उद्यभोग पु [उपभोग] १ एक बार भोग, आसेवन। २ अन्तरंग भोग (आवक २८४)। ३ धारण करना (ठा ५, ३ टी—पव ३३८)।

उद्यभोग्ग } वि [उपभोग्य] उपभोग-योग्य उद्यभोज्ज } (राज, बृह ३)।

उद्यमा स्त्री [उपमा] १ सादृश्य, दृष्टान्त (अणु, उव, प्रासू १२०)। २ सत्य (ठा १०)। ३ साद्य-पदार्थ विशेष (जीव ३)। ४ 'प्रसवव्याकरण' सूत्र का एक जुग अध्ययन (ठा १०)। ५ अलङ्कार-विशेष (विसे ६६६ टी)। ६ प्रमाण-विशेष, उपमान-प्रमाण (विसे ४७०)।

उद्यमाण न [उपमान] १ दृष्टान्त, सादृश्य। २ जिस पदार्थ से उपमा दी जाय वह (दसनि १)। प्रमाण-विशेष (सूत्र १, १२)।

उद्यमालिय वि [उपमालित] विभूषित, सुशोभित।

'अमलामयपडिपुत्त, कुवलयमालोवमालियमुह च। कणयमयपुरणकलस, विलसत पासए पुरओ' (सुपा ३४)।

उद्यमिय वि [उपमित] १ जिसकी उपमा दी गई हो वह। २ जिसकी उपमा दी गई हो वह (आवम)। ३ न. उपमा, सादृश्य (विसे ६८५)।

उद्यमेअ वि [उपमेय] उपमा के योग्य (मै ७३)।

उद्यय पु [दि] हाथी को पकड़ने का गड्ढा (पास)।

उद्यय देखो ओवय। वक्क उद्ययत (कप्प)।

उद्यय (अप) देखो उद्यय (भवि)।

उद्ययर सक [उद्य + कृ] उपकार करना, हित

करना। उद्ययेइ (सए)। कृ. उद्ययरियव्व (सुपा ५६४)।

उद्ययर सक [उप + चर्] १ आरोप करना। २ भक्ति करना। ३ कल्पना करना ४ चिकित्सा करना। क्वक. उद्ययरिज्जत (सुपा ५७)।

उद्ययरण न [उपकरण] साधन, सामग्री, 'भाए धरोवअरण अज्ज हु एत्थि ति साहिअ तुमए' (काप्र २६, गउड)। २ उपकार (सत्त ४१ टी)।

उद्ययरिय वि [उपकृत] १ उपकृत। २ उपकार (वजा १०)।

उद्ययरिय वि [उपचरित] आरोपित (विसे २८३)।

उद्ययरिया स्त्री [उपचारिका] दासी (उप पृ ३८७)।

उद्यया सक [उप + या] समीप में जाना। उद्ययाइ (सूत्र १, ४, १, २७)। उद्ययति (विसे १४६)।

उद्ययाइय वि [उपयाचिन] १ प्रार्थित, अभ्यर्था। २ न मनौती, किसी काम के पूरा होने पर किसी देवता की विशेष आराधना करने का मानसिक सकल्प (ठा १०, साया १, ८)।

उद्ययाण न [उपयान] समीप में गमन (सूत्र १, २)।

उद्ययार पुं [उपकार] भलाई, हित (उव, गउड, वजा ५८)।

उद्ययार पु [उपचार] १ पूजा, सेवा, आदर, भक्ति (स ३२, प्रति ४)। २ चिकित्सा, शुश्रूषा (पचा ६)। ३ लक्षण, शब्द-शक्ति-विशेष, अव्यारोप, 'जो तेसु घम्मसद्धो सो उद्ययारेण, निच्छएण इह' (दसनि १)। ४ व्यवहार, 'गिउएणजुत्तोवयारकुसला' (विपा १, २)। ५ कल्पना, 'उद्ययारओ खित्तस्स विणिगमए सल्लओ नत्थि' (विसे)। ६ आदेश (आवम)।

उद्ययारग वि [उपचारक] सेवा-शुश्रूषा करने-वाला (निडू ११)।

उद्ययारण न [उपचारण] अन्य-द्वारा उपकार करना, 'उद्ययारणपारणामु विणओ पडजियव्वो' (पएह २, ३)।

भी एक (पङ्) । °या अ [°दा] एक समय मे (प्रा. नव २४) । °राइय वि [°रात्रिक] एक-रात्रि-सम्बन्धी, एक रात मे होनेवाला (सम २१, सुर ६, ६०) । °राय न [°रात्र] एक रात्र (ठा ५, २) । °ह्ल वि [एक] एकाकी, अकेला (ठा ७, सुर ४, ५४) । °विह वि [°विध] एक प्रकार का (नव ३) । °विहारि वि [°विहारिन्] एकल-विहारी, अकेला विचरनेवाला (बृह १) । °वीसइम वि [°विशतितम] एकतीसवाँ (पउम २१, ८१) । °वीसा ली [°विशति] एकतीस (पि ४४५) । °सट्ट वि [°षट्] एकसठवा, ६१ वा (पउम ६१, ७५) । °सट्टि ली [°पष्टि] एकसठ (सम ७५) । °सत्तर वि [°सप्तत्] एकहत्तरवाँ, ७१ वा (पउम ७१, ७०) । °समइय वि [°सामयिक] एक समय मे होनेवाला (भग २४, १) । °सरिया ली [°सरिका] एकावली, हार-विशेष (ज १) । °साडिय वि [°शाटिक] एक वज्र-वाला, 'एगसाडियमुत्तरासग करेइ' (कप्प, गाय १, १) । °सिअ अ [°दा] एक समय मे (पङ्) । °सेल पु [°शैल] पर्वत-विशेष (ठा २, ३) । °सेलकूड पुन [°शैलकूट] एकशैल पर्वत का शिखर-विशेष (ज ४) । °सेस पुं [°जेप] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष (अणु) । °हा अ [°धा] एक प्रकार का (ठा १) । °हुत्त अ [°सकृत्] एक वार (प्राभा) । °णिअ वि [°फिन्] अकेला (कस. ओघ २८ भा) । °दस वि व [°दशन्] ग्यारह । °दसुत्तरसय वि [°दशोत्तरशततम] एक सौ ग्यारहवाँ, १११ वाँ (पउम १११, २४) । °भोग पु [°भोग] एकत्र-बन्धन (निचू १) । °मोस वि [°मर्श] १ प्रत्यु-पेक्षणा का एक दोष, बल को मध्य मे ग्रहण कर दोनो अचलो को हाथ से धसोट कर उठाना (ओघ २६७) । °यय वि [°यत्] एकत्र सबद्ध (कप्प) । °रस देखो °दस (पि ४३५) । °रसी ली [°दशी] तिथि-विशेष, एकादशी (कप्प, पउम ७३, ३४) । °वण्ण लीन [°पञ्चाशत्] एकावन (पि २६५) । °वलि, °ली ली [°वलि,

ली] विविध प्रकार की मणियों से ग्रथित हार (औप) । °वलीपविभत्ति न [°वलीप्रवि-भक्ति] नाटक-विशेष (राय) । °वाइ पु [°वादिन्] एक ही आत्मा वगैरह पदार्थ को माननेवाला दर्शन, वेदान्त दर्शन (ठा ८) । °वीस लीन [°विशति] सख्या-विशेष, एकतीस (पउम २०, ७२) । °सण न [°शन, °सन] व्रत विशेष, एकाशन (धर्म २) । °ह पुन [°ह] एक दिन (आचा २, ३, १) । °हच्च वि [°हृत्य] एक ही प्रहार से नष्ट हो जानेवाला (भग ७, ६) । °हिय वि [°हिक] १ एक दिन का उत्पन्न । २ पु ज्वर-विशेष, एकान्तर ज्वर (भग ३, ७) । °हिय वि [°धिक] एक से ज्यादा (पच) । देखो एअ, एऊ और एह् ।

एगत देखो एकत्त (ठा ५, सूअ १, १३, ओघ ५५, पचा ५, १०) । °दिट्टि ली [°दष्टि] १ जैनेतर दर्शन । २ वि जैनेतर दर्शन को माननेवाला (सूअ २, ६) । ३ ली निश्चित सम्यक्त्व, निरचल सत्य-अद्वा (सूअ १, १३) । °दूसमा ली [°दुष्पमा] अवसर्पिणी-काल का छठवाँ और उत्सर्पिणी-काल का पहला आरा, काल-विशेष (सूअ १, ३) । °पडिय पुं [°पण्डित] साधु, सयत (भग) । °वाल पु [°वाल] १ जैनेतर दर्शन को माननेवाला । २ असयत जीव (भग) । °वाइ वि [°वादिन्] जैनेतर दर्शन का अनुयायी (राज) । °वाय पु [°वाद] जैनेतर दर्शन (सुपा ६५८) । °सुसमा ली [°सुपमा] काल विशेष, अवसर्पिणी काल का प्रथम और उत्सर्पिणी काल का छठवाँ आरा (एदि) ।

एगतिय वि [°एकान्तिक्] १ अवश्यभावी (विसे) । २ अद्वितीय: 'एगतिय कम्मवाहि-ओसह' (स ५६२) । ३ जैनेतर दर्शन (सम्म १३०) ।

एगतिय न [°एकान्तिक्] मिथ्यात्व का एक भेद—वस्तु को सर्वथा क्षणिक आदि एक ही दृष्टि से देखना (सवोच ५२) ।

एगट्टि देखो एग्ग-सट्टि (देवेन्द्र १३६, मुज्ज १२) ।

एगट्टिया ली [°दे] नौका, जहाज (गाया १, १६) ।

एगठाण न [°एक्स्थान] एक प्रकार का तप (पव २७१) ।

एगिंदिय वि [°एकेन्द्रिय] एक इन्द्रियवाला, केवल स्पर्शेन्द्रियवाला (जीव) (ठा ७) ।

एगीभूत वि [°एकीभूत] मिला हुआ, एकता-प्राप्त (सुपा ८६) ।

एगूण देखो अउण । °चत्ताल वि [°चत्ता-रिंश] उनचालीसवा (पउम ३६, १३४) ।

°चत्तालीस लीन [°चत्तारिंशत्] उनचालीस (सम ६६) । °चत्तालीसइम वि [°चत्ता-रिंशत्तम] उनचालीसवाँ (सम ८६) । °णउइ ली [°नवति] नवासी (पि ४४४) । °तीस लीन [°त्रिंशत्] उनतीस, २६ । °तीसइम वि [°त्रिंशत्तम] उनतीसवाँ, २६ वाँ (पउम २६, ४६) । °नउइ देखो °णउइ (सम ६४) । °नउय वि [°नवत्] नवासीवाँ (पउम ८६, ६५) । °पञ्ज, °पञ्जास लीन [°पञ्चाशत्] उनचास (सम ७०, भग) । °पञ्जास वि [°पञ्चाश] उनपचासवाँ (पउम ४६, ४०) । °पञ्जासइम वि [°पञ्चाशत्तम] उनपचासवाँ (सम ६६) । °वीस लीन [°विशति] उन्नीस (सम ३६, पि ४४४, गाय १, १६) । °वीसइ ली [°विशति] उन्नीस (सम ७३) । °वीसइम, °वीसईम, °वीसम वि [°विशतितम] उन्नीसवाँ (गाया १, १८, पउम १६, ४५, पि ४४६) । °सट्ट वि [°पष्ट] उनसठवाँ ५६ वाँ (पउम ५६, ८९) । °सत्तर वि [°सप्तत्] उनसत्तरवाँ (पउम ६६, ६०) । °सी, °सीइ ली [°शीवि] उन्नासी (सम ८७, पि ४४४, ४४६) । °सीय वि [°शीत] उन्नासीवाँ, ७६ वाँ (पउम ७६, ३५) । देखो अउण ।

एगूस्य पुं [°एकोरुक्] १ इम नाम का एक अन्तर्दोष । २ वि उसका निवासी (ठा ४, २) ।

एग्ग (अप) देखो एग (पिग) ।

एज पु [°एज] बाधु, पवन (आचा) ।

एजणया ली [°एजना] कम्प, नांपना (स्यनि १६६) ।

एज्ज देखो एय्ज = एज्ज । वट्ट एज्जमाण (राय ३८) ।

एज्जत देखो ए = आ + इ ।

एज्जण न [°आजण] आगमन (नव ३) ।

उबलभ देखो उबलभ = उप + लभ् । वक्क
उबलभंत (पि ४५७) । सक उबलभ
(पि ५६०) ।

उबलभत्ता } छी [दे] वलय, कञ्ज
उबलयभग्गा } (दे १, १२०) ।

उबलल भक [उप + लल] क्रीडा करना,
विलास करना । कवक उबललंत (महा) ।
प्रथो, वक्क उबलालिज्जमाण (गाया १, १) ।

उबललय न [दे] सुरत, मैथुन (दे १,
११७) ।

उबललिय न [उपललित] क्रीडा-विशेष
(गाया १, ६) ।

उबलह देखो उबलभ = उप + लभ् । संक
उबलहिय (स ३२), उबलह्जिऊण (स
६१०) ।

उबला सक [उप + ला] १ ग्रहण करना ।
२ आश्रय करना । हेक्क उबलाउ (वव १) ।
उबलि देखो उबलि । उबलिइज्जा (आचा २,
३, १, २) ।

उबलिप सक [उप + लिप्] लीपना,
पोतना । भवि उबलिपिहिइ (पि ५४६) ।
उबलिप सक [उप + लिप्] चुम्बन करना,
'बलाण जो उ सीसाण जोहाए उबलिपए'
(गन्ध १, ११६) ।

उबलित्त वि [उपलिम्] लीपा हुआ, पोता
हुआ (गाया १, १) ।

उबलीण देखो उबल्लीण ।

उबलुअ वि [दे] सलज्ज, लजा-युक्त (दे १,
१०७) ।

उबलेप पु [उपलेप] १ लेपना । २ कर्म-
कथ (श्रीप) । ३ सश्लेप (आचा) । ४
आश्लेप (सूत्र १, १, २) ।

उबलेपण न [उपलेपन] ऊपर देखो (भा
११ ६, निबू १, श्रीप) ।

उबलेपिय वि [उपलेपित] लीपा हुआ,
पोता हुआ (कप्प) ।

उबलेभ सक [उप + लोभय्] लालच
देना, लोभ दिवाना । सक उबलेभेऊण
(महा) ।

उबलेहिय वि [उपलोभित] जिसको लालच
दो गई हो वह (उप ७०० टी) ।

उबल्लि सच [उप + ली] १ रहना, स्थिति

करना । २ आश्रय करना । उबल्लियइ (पि
१६६, ४७४), 'तमो संजयामेव वासावास
उबल्लिइज्जा' (आचा २, ३, १, १, २) ।

उबल्लीण वि [उपलीन] १ स्थित । २
प्रच्छन्न-स्थित, 'उबल्लीणा मेहुणधम्मं विएण-
वेंति' (आचा २) ।

उबवइ पु [उपपति] जार (धर्मवि १२८) ।

उबवज्ज भक [उप + पद्] १ उत्पन्न होना ।
२ सगत होना, युक्त होना । उबवज्ज, भवि
उबवज्जिहिइ (भग, महा) । वक्क उबवज्ज-
माण (ठा ४) । सक । उबवज्जित्ता (भग
१७, ६) । हेक्क उबवज्जिउ (सूत्र २, १) ।

उबवज्जण न [उपवर्जन] त्याग, 'असमजसो-
ववज्जणमिह जायइ सब्बसगवायामो' (सुपा
४७१) ।

उबवज्जमाण देखो उबवाय = उप + वादय् ।

उबवज्ज वि [उपवाह्य] राज आदिका बल्लभ
—प्रधान, सेनापति आदि (दस ६, २, ५) ।

उबवज्ज वि [औपवाह्य] प्रधान आदि का,
प्रधान आदि को बैठने योग्य (दस ६, २, ५) ।
उबवट्ट भक [उप + वृत्] च्युत होना,
मरना, एक गति से दूसरी गति में जाना ।

उबवट्टइ (भग) । वक्क उबवट्टमाण (भग) ।

उबवण न [उपवन] बगीचा (गाया १, १,
गउड) ।

उबवण वि [उपपन्न] १ उत्पन्न, 'उबवणो
माणुसम्मि लोगम्मि' (उत्त ६) । २ सगत,
युक्त (पचा ६, उवर ४७) । ३ प्रेरित,
'उबवणो पावकम्मणुणा' (उत्त १६) । ४ न.
उत्पत्ति, जन्म (भग १४, १) ।

उबवत्ति छी [उपपत्ति] १ उत्पत्ति, जन्म
(ठा २) । २ युक्ति, न्याय (पउम २, ११७,
उवर ४६) । ३ विषय । ४ सभव, 'विसउ त्ति
वा सभउ त्ति वा उवव त्ति वा एण्डा'
(आचू १) ।

उबवत्तु वि [उपपत्तु] उत्पन्न होनेवाला,
'देवलोणुसु देवताए उववतारो भवति' (श्रीप,
ठा ८) ।

उबवन्न देखो उबवण्ण (भग, दा २, २, स
१५८, १६२) ।

उबवयण न [उपपतन] देखो उबवाय =
उपपात, 'उबवयण उववामो' (पचमा) ।

उबवसण न [उपवसन] उपवास (सुपा
६१६) ।

उबवाइय वि [औपपादिक, औपपातिक]
१ उत्पन्न होनेवाला, 'अत्थि मे आया उव-
वाइए, नत्थि मे आया उववाइए' (आचा) ।
२ देवरूप या नारक रूप से उत्पन्न होनेवाला
(पएह १, ४) ।

उबवाय सक [उप + पादय्] सपादन
करना, सिद्ध करना । उबवायए (उत्त १,
४३, दस ८, ३३) ।

उबवाय पु [उप + वादय्] वाद्य बजाना ।
कवक उपवज्जमाण, उबवज्जमाण (कप्प,
राज) ।

उबवाय पु [उपपात] १ देव या नारक जीव
की उत्पत्ति—जन्म (कप्प) । २ सेवा, आदर,
'आणोववायवयणनिहेसे चिट्ठति' (भग ३, ३) ।
३ विनय । ४ आज्ञा, 'उववामो एण्हेसो
आणा विण्णो य होति एण्डा' (वव ४) ।
५ प्रादुर्भाव (परण १६) । ६ उपसपादन,
संप्राप्ति (निबू ५) । ७ कप्प पु [कल्प]
साध्याचार-विशेष, पाश्चत्यो के साथ रह कर
सविग्न विहार की संप्राप्ति (पचमा) । ८ य
वि [°ज] देव या नारक गति में उत्पन्न
जीव (आचा) ।

उबवास पुन [उपवास] उपवास, अनाहार,
दिन-रात भोजनादि का अभाव (उवा, महा) ।
उबवासि वि [उपवासिन्] जिसने उपवास
किया हो वह (पउम ३३, ५१, सुपा ४७८) ।
उबवासिय वि [उपवासित] उपवास किया
हुआ (भवि) ।

उबविअ देखो उववीअ, 'सव्वंगं जुव्वणो च
(? व) विमो' (धर्मवि ८) ।

उबविट्ट वि [उपविट्ट] बैठा हुआ, निषण्ण
(आवम) ।

उबविणिग्गय वि [उपविनिर्गत] सतत
निर्गत (जीव ३) ।

उबविस भक [उप + विश्] बैठना । उव-
विसइ (महा) । सक उबविसिअ (अभि
३८) ।

उबविसण न [उपवेशन] बैठना (कुलक ७) ।
उववीअ न [उपवीत] १ यज्ञसूत्र, जनेऊ

एल वि [दे] कुशल, निपुण (दे १, १४४)।
एल पु [एड, एल] १ मुगो की एक
एलगा } जाति (विवा १, ४)। २ मेघ भेड
(सूत्र २, २)। ३ मूअ, ० मूअ वि [मूक]
१ मूक, भेड की तरह श्रव्यक्त बोलनेवाला,
'जलएलमूमम्ममगमलियवयएणपणे दोसा'
(आ १२, दस ५, आव ४, निवृ ११)।

एलगाच्छ न [एलगाच्छ] स्वनाम-ख्यात नगर-
विशेष (उप २११ टी)।

एलय देखो एल (उवा, पि २५०)।

एलविल वि [दे] १ वनाल्य, धनी। २ पु
वृषभ, बैल (दे १, १४८, पड्)।

एला ली [एला] १ इलायची का पेठ (से ७,
६२)। २ इलायची-फल (सुर १३, ३३)।

० रस पुं [० रस] इलायची का रस (परह
२, ५)।

एलालुय पुन [एलालुक] आलू की एक
जाति, कन्द-विशेष (अनु ६)।

एलावन्न न [एलापत्य] माण्डव्य गोत्र का
एक शाखा-गोत्र (ठा ७)।

एलावन्न वि [एलापत्य] एलापत्य-गोत्र का
(एदि ४६)।

एलावन्ना ली [एलापत्या] पक्ष की तीसरी
रात (चद १०, १४)।

एलिक्ख वि [ईटक्] ऐसा (उत्त ७, २२)।

एलिण पु [एलिण्] धान्य-विशेष (परह १)।

एलिया ली [एडिका, एलिका] १ एक जात
की मुगी। २ भेडिया (हे ३, ३२)।

एलिस देखो एरिस (सूत्र १, ६, १)।

एल पुं [एल] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी)।

एलगा पुन [एलुक] देहली, द्वार के नीचे
एलय } की लकड़ी (जीव ३, आचा २)।

एल्ल वि [दे] दाँढ़, निर्धन (दे १, १७४)।

एव अ [एव] इन अर्थों का सूचक शब्द — १
अवधारण, निश्चय (ठा ३, १ प्राप् १६)। २
साहचर्य, तुल्यता। ३ चार-नियोग। ४ निग्रह।

५ परिभव। ६ श्रम, थोडा (हे २, २१७)।

७ देको एव (हे १, २६, पउम १५, २४)।

एवइ वि [इयत्, एतावत्] इतना।

० खुत्तो अ [० कृत्वस्] इतनी बार (कम्प)।

एवइय वि [इयत्, एतावत्] इतना (कम्प,
विसे ४४४)।

एव अ [एवम्] इस तरह, इस रीति से,
इस प्रकार (सूत्र १, १, हे १, २६)। ० मूअ
पु [० मूत्] १ व्युत्पत्ति के अनुसार उच्च क्रिया
से विशिष्ट अर्थ को ही शब्द का अभिप्रेय
माननेवाला पक्ष (ठा ७)। २ वि इस तरह
का, एव-प्रकार (उप ८७७)। ० विध, ० विह
वि [० विध] इस प्रकार का (हे ४, ३२३,
काल)।

एवहास पु [एवहास] इतिहास (गउड
८०२)।

एवड (अप) वि [इयत्] इतना (हे ४,
४०८, कुमा, भवि)।

एवमाइ देखो एमाइ (परह १, ३)।

एवमेव } देखो एमेव (हे १, २७१, उवा)।
एवामेव }

एवव देखो एव (पड्, अमि ७२, स्वप्न १०)।

एवव देखो एव = एव (अमि १३, स्वप्न ४०)।

एववहि (अप) अ [इदानीम्] इस समय,
अधुना (पड्)।

एववारु पु [इवारु] ककडी (कुमा)।

एस सक [इप्] १ इच्छा करना। २
खोजना। ३ प्रकाशित करना। एसइ (पिड
७५)।

एस सक [आ + इप्] करना, 'तम्हा
विणयमेसिजा' (उत्त १, ७, सुख १, ७)।

एस सक [आ + इप्] १ खोजना, शुद्ध
भिक्षा की खोज करना। २ निर्दोष भिक्षा का
ग्रहण करना। एसति (आचा २, ६, २)।
वक्क, एसमाण (आचा २, ५, १)। सक
एसित्ता, एसिया (उत्त १, आचा)। हेह,
एसित्तए (आचा २, १, १)।

एस वि [एज्य] १ भावी पदार्थ, होनेवाली
वस्तु (भाव ५)। २ पु भविष्य काल (दमनि
१), 'अकमव संगइ गए कह कीरइ, विह व
एसम्मि' (विसे ४२२)।

० एस देखो देस, 'भण को ए सम्मइ जणो
पटियंजतो अएसकालम्मि' (गा ४००)।

एसग वि [एपक] अन्वेषक, गवेषक (आचा)।
एसज्ज न [ऐइवर्णे] वैभव, प्रभुत्व, संपत्ति
(ठा ७)।

एसण न [एषण] १ अन्वेषण, खोज। २
ग्रहण (उत्त २)।

एसणा ली [एपणा] १ अन्वेषण, गवेषण,
खोज (आचा)। २ प्राप्ति, लाभ, 'वित्तएण
भियायति' (सूत्र १, ११)। ३ प्राप्ति (सुप
१, २)। ४ निर्दोष आहार की खोज करना
(ठा ६)। ५ निर्दोष भिक्षा (आचा २)। ६
इच्छा, अभिलाष (पिड १)। ७ भिक्षा न
ग्रहण (ठा ३, ४)। ० समिइ ली [० समिति]
निर्दोष भिक्षा का ग्रहण करना (ठा १)।
० समिय वि [० समित] निर्दोष भिक्षा न
ग्रहण करनेवाला (उत्त ६, भाग)।

एसणिज्ज वि [एपणीय] ग्रहण-योग्य (ए
१, ५)।

एसि वि [एपिन्] अन्वेषक, खोज करने
(आचा)।

एसिय वि [एपिक] १ खोज करने
गवेषक। २ पु व्याघ्र। ३ पावरीए
(सूत्र १, ६)। ४ मनुष्यों की एक
जाति (आचा २, १, २)।

एसिय वि [एपित] गवेषित, अन्वेषित
(उत्त ७, १)। २ निर्दोष भिक्षा (वव ४)।

एसिय वि [एपित] भिक्षा-चर्या की
प्राप्ति (सूत्र २, १, ५६)।

एससरिय देखो एसज्ज (उव)।

एह अक [एध्] बढना, उन्नत होना
(पड्)। प्रयो, कवक 'दीसनि दुइ
(दस ६)।

एह (अप) वि [ईटक्] ऐसा, इ
(पड्, भवि)।

एहत्तरि (अप) ली [एकसमति] १
विशेष, ७१ (पिग)।

एहा ली [एधस्] शमिष, इत्यतः उ
४३, ४४)।

एहिअ वि [एहिक्] इन जगत्-न
६२)।

॥ इअ निरिपाईअसहमहणवो एयाराइसहसवनणो
सत्तनो तरणो समत्तो ॥

उवसाम पु [उपशामे] उपशान्ति (सिदि २३५)।

उवसाम देखो उवसाम (विसे १३०६)।

उवसामग वि [उपशामक] १ क्रोधादि को उपशान्त करनेवाला (विसे ५२६, आब ४)।
२ उपशामसे सबन्ध रखनेवाला, 'उवसामिग-सेटिगयस्स होइ उवसामग नु सम्मत' (विसे २७३५)।

उवसामग न [उपशामन] उपशान्ति, उपशाम (स ४६६)।

उवसामगया क्री [उपशामना] उपशाम (ठा ८)।

उवसामय देखो उवसामग (सम २६, विसे १३०२)।

उवसामिय वि [औपशामिक] १ उपशाम-सबन्धी। २ पु भाव-विशेष, 'मोहोवसामस-हावो, सब्बो उवसामिओ भावो' (विसे ३४-६४)। ३ न सम्पत्त्व-विशेष (विसे ५२६)।

उवसामिय वि [उपशामित] शान्त किया हुआ (वव १)।

उवसाह सक [उप + कथ्] कहना। उव-साहइ (सण)।

उवसाहण वि [उपसाधन] निष्पादक (सण)।

उवसाहिय वि [उपसाधित] तैयार किया हुआ (पाउम ३४, ८, सण)।

उवसित्त वि [उपसित्त] सित्त, छिडका हुआ (रमा)।

उवसिलोअ सक [उपश्लोक्य] बरान परना, प्रगमा करना। क. उवसिलोअइदव्व (सो) (मुद्रा १६८)।

उवसुत्त वि [उपसुत्त] सोपा हुआ (से १५, ११)।

उवसुद्ध वि [उपसुद्ध] निर्दोष (सूत्र १, ६)।

उवसुइय वि [उपसूचित] मसूचित (नरा)।

उवसेव वि [उ] रति योग्य (दे १, १०४)।

उवसेवण न [उपसेवन] सेवा, परिचय (पव ६)।

उवसेवण वि [उपसेवण] सेवा करनेवाला, नक (भवि)।

उवसेमोअ भक [उप + शुभ्] शोभना, विरा-जना। नट उवसेममाण, उवसेमेमाण (न, पाया १, १)।

उवसोभिय वि [उपशोभित] सुशोभित, विराजित (श्रौष)।

उवसोहा क्री [उपशोभा] शोभा, विसुपा (सुर ३, १०४)।

उवसोहिय वि [उपशोधित] निर्मल किया हुआ, शुद्ध किया हुआ (णाय १, १)।

उवसोहिय देखो उवसोभिय (सुपा ५, भवि, सार्ध ६६)।

उवस्सग्ग देखो उवस्सग्ग (कस)।

उवस्सय पु [उपाश्रय] जैन साधुओ के निवास करने का स्थान (सम १८८, श्रौष १७ भा. उप ६४८ टी)।

उवरसा क्री [उपाश्रा] द्वेष (वव १)।

उवस्सिय वि [उपाश्रित] १ द्वेषी (वव १)। २ अङ्गीकृत। ३ समीप में स्थित। ४ न द्वेष (राज)।

उवस्सुदि क्री [उपश्रुति] प्रश्न-फल को जानने के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य (हास्य १३०)।

उवह स [उभय] दोनों, युगल (कुमा, हे २, १३८)।

उवह थ [दे] 'देखो' अर्थ को बतलानेवाला अव्यय (पड)।

उवहट्ट सक [समा + रभ्] शुरू करना, आरम्भ करना। उवहट्टइ (पड)।

उवहड्ड वि [उपहृत] १ उपदोषित, उपस्था-पित (राज)। २ भोजन स्थान में अपित भोजन (ठा ३, ३)।

उवहण सक [उप + हन्] १ विनाश करना। २ आघात पहुँचाना। उवहणइ (उव)। कर्म उवहम्मइ (पड)। वक्र उवहणत (राज)।

उवहणण न [उपहनन] १ आघात। २ विनाश (ठा १०)।

उवहत्थ मक [समा + रच्] १ रचना, बनाना। २ उत्तेजित करना। उवहत्थइ (हे ४, ६५)।

उवहत्थिय वि [समारचित] १ बनाया हुआ। २ उत्तेजित (कुमा)।

उवहम्म देखो उवहण।

उव्हिय वि [उपह्वत्] १ विनाशित (प्रासू १३५)। २ दूषित (वृह १)।

उवहर सक [उप + ह्] १ पूजा करना।

२ उपस्थित करना। ३ अपराण करना। उव्ह-हरइ (हे ४, २५६)। भूका उवहरिसु (ठा ६)।

उवहस सक [उप + हस्] उपहास करना, हँसी करना। क. उवहसणिज्ज (स ३)।

उवहसिअ वि [उपहसित] १ जिसका उप-हास किया गया हो वह (पि १५५)। २ न उपहास (तट्ट)।

उवहा क्री [उपधा] माया, कपट (धर्म ३)।

उवहाण न [उपधान] १ तंक्रिया, उसीसा (दे १, १४०, सुर १२, २५, सुपा ४)। २ तपश्चर्या (सूत्र १, ३, २, २१)। ३ उपाधि, 'सच्छपि फलिहरथण उवहाणवसा कलिज्जए काल' (उप ७२८ टी)।

उवहार पु [उपहार] १ भेट, उपहार (प्रति ७४)। २ विस्तार, फैलाव, 'पहासमुद्वेओव-हारीहिं सव्वओ चैव दीवयत्' (कम्प)।

उवहारणयो देखो उवधारणया (राज)।

उवहारिअ वि [उपधारित] अवधारित, निश्चित (सूत्र २, ७)।

उवहारिआ } क्री [दे] दोहनेवाली क्री (गा उवहारी } ७३१, दे १, १०८)।

उवहारुल्ल वि [उपहारवत्] उपहारवाला (सक्ति २०)।

उवहास पु [उपहास] हँसी, ठट्टा, विल्लागी (हे २, २०१)।

उवहास वि [उपहास्य] हँसी के योग्य, 'सुसमत्थो वि ह जो,

जणयमपिजयं सपय निसेवेइ। सो अग्गि। ताव लोए, ममव

उवहासय लहइ' (सुर १, २३२)।

उवहासिणिज्ज वि [उपहसनीय] हास्यास्पद (पउम १०६, २०)।

उवहि पुं [उवधि] समुद्र, सागर (से ५, ४०, ४२, भवि)।

उवहि पुली [उपोधि] १ माया, कपट (आचो)। २ कर्म (सूत्र १, २)। ३ उप-करण, साधन, "तिविहो उवहो परणत्ता" (ठा ३, श्रौष २)।

उवहिंड सक [उप + हिण्ड्] पर्यटन करना, घूमना, 'मिक्खत्थं उवहिंडे' (संवीच ४१)।

‘ओच्छाहिओ परेण व लद्धि-
पसंसाहि वा समुत्तइओ ।
अवमारिओ परेण य जो
एसइ माएपिडो सो ॥’
(पिंड ४६५) ।

ओच्छिअ न [दे] केश-विवरण (दे १,
१५०) ।

ओच्छिण वि [अवच्छिन्न] आच्छादित,
‘पत्तेहि य पुप्फेहि यओच्छिणएणपलिच्छिणएणा’
(जीव ३) ।

ओच्छुद सक [आ + क्रम्] ? आक्रमण
करना । २ गमन करना । ओच्छुदति (से
१३, १६) । कर्म ओच्छुदइ (से १०,
५५) ।

ओच्छुण वि [आक्रान्त] ? दबाया हुआ ।
२ उल्लिखित, ‘ओच्छुरणदुग्गमपहा’ (से १३,
६३, १५, १३) ।

ओच्छोअअ न [दे] घर की छत के प्रान्त
भाग से गिरता पानी,

‘रक्खेइ पुत्तअ मत्थएण
ओच्छोअअ पडिच्छती ।

असूहि पहिअवरिणी ओलि-
ज्जत ए लक्खेइ’ (गा ६२१)

ओजिम्ह अक [त्रा] वृत्त होना । ओजिम्हइ
(प्राक् ६५) ।

ओज्जर वि [दे] भीरु, डरपोक (षड्) ।

ओज्जल देखो उज्जल (दे) ।

ओज्जल्ल वि [दे] बलवान्, प्रबल (दे १,
१५४) ।

ओजाअ पु [दे] गजित, गर्जारव (दे १,
१५४) ।

ओज्जम वि [दे] मैला, अस्वच्छ, चोखा नही
वह (दे १, १४८) ।

ओज्जमत देखो ओज्जमा = अय + ध्या ।

ओज्जमण न [दे] पलायन, भाग जाना (दे
१, १०३) ।

ओज्जमर पुं [निर्भर] भरना, पर्वत से
निकलता जल-प्रवाह (गा ६४०, दे १, ६८,
कुमा, महा) ।

ओज्जमरिअ [दे] देखो उज्जमरिअ (दे १,
१३३) ।

ओज्जमरी स्त्री [दे] ओम्ह, आत का आवरण
(दे १, १५७) ।

ओज्जमा सक [अप + ध्या] खराब चिन्तन
करना । कवक्क, ओज्जमत (भवि) ।

ओज्जमा देखो अउज्जमा (उप पृ ३७४) ।

ओज्जमाय देखो उवज्जमाय (कुमा, प्राक्) ।

ओज्जमाय वि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर
हाथ से लिया हुआ (दे १, १५६) ।

ओज्जमावग देखो उवज्जमाय (उप ३५७ टी) ।

ओट्ट पु [ओष्ठ] ओठ, अवर (पउम १,
२४, स्वप्न १०४, कुमा) ।

ओट्टिय वि [औष्टिक] उष्ट्र सम्बन्धी, उष्ट्र
के बालों से बना हुआ (कस, स ५८६) ।

ओडडि वि [दे] अनुरक्त, रागी (दे १,
१५६) ।

ओड्ड पु [ओड्] ? उत्कल देश । २ वि
उत्कल देश का निवासी, उडिया (पिंग) ।

ओड्डिअ वि [ओड्डीय] उत्कल-देशीय (पिंग) ।

ओड्डण न [दे] ओढन, उत्तरीय, चादर
(दे १, १५५) ।

ओड्डिगा स्त्री [दे] ओढनी (स २११) ।

ओढण न [दे] अयगुणठन (प्राक् ३८) ।

ओण देखो ऊण = ऊन (रभा) ।

ओणंद सक [अव + नन्द्] अभिनन्दन
करना । कवक्क ओणदिज्जमाण (कप्प) ।

ओणम अक [अव + नम्] नीचे नमना ।

वक्क ओणमत (से १, ४५) । सक ओण-
मिअ, ओणमिऊण (आवा २, निचू १) ।

ओणय वि [अवनत] ? नमा हुआ (सुर २,
४६) । २ न नमस्कार, प्रणाम (सम २१) ।

ओणल्ल अक [अव + लम्ब्] लटकना,
‘केसकलावु खचे ओएल्लइ’ (भवि) ।

ओणविय वि [अवनमित] नमाया हुआ,
अवनत किया हुआ (गा ६३५) ।

ओणाम सक [अव + नमय्] नीचे नमाना,
अवनत करना । ओणामेहि (मुच्छ ११०) ।

संक्क ओणामित्ता (निचू) ।

ओणामणी स्त्री [अवनामनी] एक विद्या,
जिसके प्रभाव से वृक्ष वगैरह स्वयं फलादि
देने के लिए अवनत होते हैं (उप पृ १५५,
निचू १) ।

ओणामिय } वि [अवनमित] अवनत किया
ओणामिय } हुआ (से ५, ३६, ६, ४, गा
१०३, भवि) ।

ओणिअत्त अक [अपनि + वृत्] पीछे
हटना, नापिस आना । वक्क ओणिअत्त
(से २, ७) ।

ओणिअत्त वि [अपनिवृत्त] पीछे हटा हुआ,
वापिस आया हुआ (से ५, ५८) ।

ओणिमिअ वि [अवनिमीलित] मुद्रित, सूँटा
हुआ (से ६, ८७, १३, ८२) ।

ओणियट्ट देखो ओनियट्ट (पि ३३३) ।

ओणियव्व पु [दे] बल्मीक, चींटियों का
खुदा हुआ मिट्टी का ढेर (दे १, १५१) ।

ओणीवी स्त्री [दे] नीवी, कटि-सून (दे १,
१५०) ।

ओणुणअ वि [दे] अभिभूत, पराभूत (दे १,
१५८) ।

ओणिणइ न [औन्निद्रय्] निद्रा का समाव
‘ओरिएण्ण दोव्वल्ल’ (काप्र ८५, दे १,
११७) ।

ओणिणय वि [और्णिक] ऊन का बना हुआ,
ऊर्ण-निर्मित (कस) ।

ओणेज्ज वि [उपनेय] सचे में ढाल कर
बना हुआ फूल आदि, सचे से बनता मोम का
पुतला, ‘आउट्टिमउक्किअ ओएणे (? ऐ)
ज्ज पील्लिम च रंग च’ (दसनि २, १७) ।

ओत्तलहअ पु [दे] विटप (दे १, ११६) ।

ओत्ताण देखो उत्ताण (विक्र २८) ।

ओत्थ सक [स्थग्] ढकना । ओत्थइ (प्राक्
६५) ।

ओत्थअ वि [अवस्तृत] ? फैला हुआ, प्रसृत
(से २, ३) । २ आच्छादित, पिहित, ‘सम-
तओ अत्थय गयण’ (आवम, दे १, १५१,
स ७७, ३७६) ।

ओत्थअ वि [दे] अवसन, विराम (दे १,
१५१) ।

ओत्थइअ देखो ओच्छइय (गा ५६६, ने
८, ६२, स ५७६) ।

ओत्थर देखो ओच्छर । ओत्थरइ (पि ५०५,
नाट) ।

ओत्थर पुं [दे] उसाह (दे १, १५०) ।

ओत्थरण न [अवस्तरण] विद्वीना (पवम
४६, ८४) ।

उवासाग वि [उपासक] १ सेवा करनेवाला ।
 २ पुं. जैन या बुद्ध दर्शन का अनुयायी गृहस्थ
 (धर्मस १०१३) ।
 उवासाग वि [उपासक] १ उपासना करने-
 वाला, सेवक । २ पु श्रावक, जैन गृहस्थ
 (उत्त २) । °दसा स्त्री [°दशा] सातवाँ
 जैन अग ग्रन्थ (सम १) । °पडिमा स्त्री
 [°प्रतिमा] श्रावको को करने योग्य नियम-
 विशेष (उत्त २) ।
 उवासाण न [उपासन] उपासना, सेवा (स
 ५४३, मै ८६) ।
 उवासणा स्त्री [उपासना] १ क्षौर कर्म,
 हजामत वगैरह सफाई । २ सेवा, शुश्रूषा,
 'उवासणा मसुकम्ममाइया, गुरुरायाईण वा
 उवासणा पञ्जुवासणया' (भावम) ।
 उवासय देखो उवासाग (सम ११६) ।
 उवासय पु [उपाश्रय] जैन मुनियों का
 निवास स्थान (उप १४२ टी) ।
 उवासिय वि [उपामित] सेवित (पचम ६८,
 ४२) ।
 उवाहण सक [उपा + हन्] विनाश करना,
 भारना । वक्क उवाहणत (परह १, २) ।
 उवाहणा देखो उवाणहा (अनु. णाया १,
 १५) ।
 उवाहि पुत्री [उपाधि] १ कर्म-जनित
 विशेषण (आचा) । २ सामीप्य, सनिधि
 (भग १, १) । ३ अस्वामाविक धर्म, 'सुद्धोवि
 फनिहमणी उपाहिवसओ धरेइ अन्नत्त' (धम्म
 ११ टी) ।
 उवि सक [उप + इ] १ समीप आना । २
 नीवार करना । ३ प्राप्त करना । उविति
 (ना) । वक्क उविति (पि ४६३, प्रामा) ।
 उविअ देगो अविअ = अपि च (स २०६) ।
 उविअ वि [उपेत] युक्त, सहित (भवि) ।
 उविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी (दे १, ८६) ।
 २ पि परिलभित, सस्कारित, 'एणामणिक-
 णायणमिन्नमहदिहनिउणोविपमिसिमिसत-
 तिररुपमुसिनिट्टविचिट्टलट्टसठियपसत्वमाविद्ध-
 वोत्तणए' (णाय १, १) ।
 उविं प [उपेन्द्र] कृष्ण (कुमा) । °वज्जा
 स्त्री [°अज] ग्यारह अक्षरों के पादवाला
 एर धन्व (निग) ।

उविं पुन [उपेन्द्र] एक देव-विमान (वेवेन्द्र
 १४१) ।
 उविकख सक [उप + ईच्] उपेक्षा करना,
 अनादर करना । वक्क उविकखमाण (इ
 १६) ।
 उविकखा स्त्री [उपेक्षा] उपेक्षा, अनादर
 (काल) ।
 उविकखिय वि [उपेक्षित] तिरस्कृत, अनादर
 (सुपा ३६५) ।
 उविकखेव पु [उद्विचेप] हजामत, मुराडन
 (तन्दु) ।
 उवियग्ग वि [उद्विग्ग] खिन्न, उद्वेग प्राप्त
 (राज) ।
 उवीव अक [उद् + विच्] उद्वेग करना,
 खिन्न होना । उवीवइ (नाट) ।
 उवे देखो उवि । उवेइ, उवेंति (औप) । वक्क
 उवेंत (महा) । सक उवेच्च (सूअ १, १४) ।
 उवेक्ख देखो उविकख । उवेक्खह (सुपा
 ३५४) । क उवेक्खियव्व (स ६०) ।
 उवेक्खिअ देखो उविकखिय (गा ४२०) ।
 उवेच्च देखो उवे ।
 उवेय वि [उपेत] १ समीप-गत । २ युक्त,
 सहित (सस्था ६) ।
 उवेय वि [उपेय] उपाय-साध्य (राज) ।
 उवेल्ल अक [प्र + स्] फैलना, प्रसारित होना ।
 उवेल्लइ (हे ४, ७७) ।
 उवेस अक [उप + विश्] बैठना । वक्क
 उवेसमाण (पिंड ५८२) ।
 उवेह सक [उप + ईक्ष्] उपेक्षा करना,
 तिरस्कार करना, उदासीन रहना । उवेहइ
 (धम्म १६) । वक्क उवेहत, उवेहमाण (स
 ४६, ठा ६) । क उवेहियव्व (सण) ।
 उवेह सक [उत्प्र + ईच्] १ जानना, सम-
 भना । २ निश्चय करना । ३ कल्पना करना ।
 उवेहाहि । वक्क उवेहमाण, 'उवेहमाणे अणु-
 वेहमाण वृथा, उवेहाहि समियाए' (आचा) ।
 सक उवेहाए (आचा) ।
 उवेहण न [उपेत्तण] उपेक्षा, उदासीनता
 (सवोष १०, हित २३) ।
 उवेहा स्त्री [उपेत्ता] तिरस्कार, अनादर, उदा-

सीनता (सम ३२) । °कर वि [°कर] उपे-
 क्षक, उदासीन (आ २८) ।
 उवेहा स्त्री [उपेत्ता] १ ज्ञान, समझ । २
 कल्पना । ३ श्रवधारण, निश्चय (औप) ।
 उवेहिय वि [उपेक्षित] अनादर, तिरस्कृत
 (उप १२६, सुपा १३५) ।
 °उव्व देखो पुव्व (गा ४१४) ।
 उव्वत वि [उद्वान्त] १ वमन किया हुआ ।
 २ निष्क्रान्त, निर्गत (अभि २०६) ।
 उव्वक्क सक [उद् + वम्] १ बाहर निकाल-
 लना २ वमन करना । हेक्क उव्वक्कउ (सुपा
 १३६) ।
 उव्वक्क } वि [उद्वान्त] १ बाहर निकाला
 उव्वक्किय } हुआ (वव १) । २ वमन किया
 हुआ ।
 'सतोसामयपाएण, काउ उव्वक्कियं हयासेण ।
 ज गहिअए विरई, कलकिया मोहपूसेण'
 (सुपा ४३५) ।
 उव्वग्ग देखो ओवग्ग । संक. उव्वग्गवि
 (भवि) ।
 उव्वट्ट उम [उद् + वृत्, वर्त्तय्] १
 चलना-फिरना । २ मरना, एक गति से दूसरी
 गति में जन्म लेना । ३ पिष्टिका आदि से
 शरीर के मल को दूर करना । ४ कर्म-पर-
 माणुओ की लघु स्थिति को हटाकर लम्बी
 स्थिति करना । ५ पार्श्व को चलाना-फिराना ।
 ६ उत्पन्न होना, उदित होना । उव्वट्टइ
 (भग) । वक्क. उव्वट्टत, उव्वट्टमाण, उअत्तत
 (भग, नाट, उत्तर १०७, बृह १) । सक
 उव्वट्टित्ता, उहट्टट्ट, उव्वट्टिय (जीव १,
 विपा १, १, आचा २, ७, स २०६) ।
 हेक्क. उव्वट्टित्तए (कस) ।
 उव्वट्ट देखो उव्वट्टिय = उव्वृत्त (भग) ।
 उव्वट्ट वि [दे] १ नीराग, राग-रहित । २
 गलित (दे १, १२६) ।
 उव्वट्टण न [उद्वर्त्तन] १ शरीर पर से मल
 वगैरह को दूर करना । २ शरीर को निर्मल
 करनेवाला द्रव्य—सुगन्धि वस्तु (उवा, णाया
 १, १३) । ३ दूसरे जन्म में जाना, मरण । ४
 पार्श्व का परिवर्त्तन (आव ४) । ५ कर्म पर
 माणुओ की हस्त स्थिति को दीर्घ करना
 (पच) ।

ओमत्थ वि [दे] नत, अघोमुख (पात्र) ।
 ओमत्थिय [दे] देखो ओमथिय (शोध ३८६) ।
 ओमह न [निर्माल्य] निर्माल्य, देवोच्छिष्ट द्रव्य (पङ्) ।
 ओमह वि [दे] घनीभूत, कठिन, जमा हुआ (पङ्) ।
 ओमाण पु [अपमान] अपमान, तिरस्कार (उत्त २६) ।
 ओमाण न [अवमान] ? जिससे क्षेत्र वगैरह का माप किया जाता है वह, हस्त, दरद वगैरह मान (ठा २, ४) । २ जिसका माप किया जाता है वह क्षेत्रादि (अणु) ।
 ओमाणण न [अवमानन, अप^०] अपमान, तिरस्कार (स ६६७) ।
 ओमाय वि [अवमित] परिमित, मापा हुआ (सुज्ज ६) ।
 ओमाल देखो ओमह = निर्माल्य (हे १, ३८, कुमा, वज्जा ८८) ।
 ओमाल अक [उप + माल] ? शोभना, शोभित होना । २ सक, सेवा करना, पूजना । संकृ ओमालि वि (भवि) । कवक 'अहवावि भक्तिपरामर्तियसवहूसीसकुसुमदामेहि' । ओमालिज्जतकमो, नियमा तिल्याहिवो होइ (उप ६८६ टी) ।
 ओमालिअ देखो ओमह = निर्माल्य (प्राकृ ३४) ।
 ओमालिअ वि [उपमालित] ? शोभित । २ पूजित, श्रित (भवि) ।
 ओमालिआ बी [अवमालिका] चिमडी या मुस्ताई हुई माला (गा १६४) ।
 ओमास पु [अचमर्श] स्पर्श (से ६, ६७) ।
 ओमिण सक [अव + मा] मापना, मान करना । कर्म ओमिणिज्जद (अणु) ।
 ओमिणय न [दे] प्रोखनक, चिवाह की एक रीति, वर के लिये सासू की ओर से किया हुआ न्योछावर (पचा ८, २५) ।
 ओमिय वि [अवमित] परिच्छिन्न, परिमित (सुज्ज ६) ।
 ओमिअ सक [अव + माल] मुदित होना, वृद्ध होना । पन ओमीलित (मि ३, १) ।

ओमोस वि [अचमिअ] ? मिश्रित । २ समीपस्य । ३ न समीप्य, समीपता, 'सुचिरपि अचमाराणे, वेरुलिओ कायमणियमोमोसे । न उवेइ कायभाव, पाहन्तगुणेण नियएण ।' (शोध ७७२) ।
 ओमुक्क वि [अवमुक्त] परित्यक्त (सम्मत्त १५६) ।
 ओमुग्ग देखो उम्मुग्ग (मि १०४, २३४) ।
 ओमुच्छिअ वि [अवमूर्च्छित] महामूर्च्छा को प्राप्त (पउम ७, १५८) ।
 ओमुद्धग वि [अवमूर्धक] अघोमुख, 'ओमुद्धगा धरणिणले पडति' (सुअ १, ५) ।
 ओमुय सक [अव + मुच्] पहनना । ओमुयइ (कप्प) । वक ओमुयत (कप्प) । सक ओमुइत्ता (कप्प) ।
 ओमोय पु [ओमोक] आभरण, आभूषण (भग ११, ११) ।
 ओमोयर वि [अवमोदर] भूल की अपेक्षा न्यून भोजन करनेवाला (उत्त ३०) ।
 ओमोयरिय न [अवमोदरिक] ? न्यून भोजनत्व, तन-विशेष (आचा) । २ दुग्गिअ, अकाल (शोध ७) ।
 ओमोयरिया बी [अवमोदरिता, 'रिका] न्यून भोजन रूप तप (ठा ६) ।
 ओमाय पु [उन्माद] उन्मत्तता (सवोव २१) ।
 ओय न [ओजस्] ? विपम सख्या, जैसे एक, तीन, पाँच आदि (पिंड ६२६) । २ आहार-विशेष, अरणी उत्पत्ति के समय जीव प्रथम जो आहार लेता है वह (सुअनि १७१) ।
 ओय वि [ओजस्] गृह, घर (वव ५) ।
 ओय वि [ओज] ? एक, असहाय (सुअ १, ४, २, १) । २ मध्यम्य, तटस्थ, उदासीन (वृह १) । ३ पु विपम राशि (भग २५, ३) ।
 ओय न [ओजस्] ? बल (आचा) । २ प्रकाश, तेज (चद ५) । ३ उत्पत्ति स्थान में आहत पुद्गलो का समूह (पएण ८, सग १८२) । ४ आर्तव ऋतु-वर्म (ठा ३, ३) ।
 ओयमि वि [ओजन्विन्] ? वनवाह । २ तेन्वी (मन १५२, प्राय) ।

ओयट्टण न [अपवर्त्तन] पीछे हटना, वापिस लौटना (उप ७६०) ।
 ओयड्ड मक [अप + कृप] धीचता । कवक ओयड्डियत (पउम ७१, २६) ।
 ओयड्डिया } बी [दे] ओदनी, ओदने
 ओयड्डिी } का बल, चादर, दुपट्टा (सुप २, ३०) ।
 ओयण देखो ओदण (पउम ६६, १६) ।
 ओयन्त वि [अववृत्त] अवनत, अघोमुख (पात्र) ।
 ओयन्त सक [अप + वर्तय] उलटाना, खाली करने के लिए नमाना । सक. ओयन्तियाण (आचा २, १, ७, ५) ।
 ओयन्तण न [अपवर्त्तन] विमकाना, हटाना (पिंड ५६३) ।
 ओयविय वि [दे] परिकर्मित (पएह १, ४, शौप) ।
 ओया बी [ओजस्] शक्ति, सामर्थ्य (एया १, १०—पन १७०) ।
 ओया बी [ओजस्] ? प्रकाश (सुज्ज ६) । २ माता का शुक्र-शोणित (तट्ट १०) ।
 ओयाइअ देखो उवयाइय (सुपा ६२५, दे ४, २२) ।
 ओयाय वि [उपयात्] उपागत, समीप पहुँचा हुआ (एया १, ६, निर १, १) ।
 ओयार सक [अव + तारय] नीचे उतारना । सक ओयारिया (वम ५, १, ६३) ।
 ओयार पु [अवतार] घाट, तीर्थ (वेद्य ५१८) ।
 ओयारण वि [अवतारक] ? उतारनेवाला । २ प्रवृत्ति करनेवाला (सम १०६) ।
 ओयारण देवो उयारण (कुप्र ७१) ।
 ओयावइत्ता अ [ओजयित्वा] ? बल दिना कर । २ चमत्कार दिना कर । ३ विद्या आदि का सामर्थ्य दिना कर (जो बीजा दी जय वह) (ठा ४) ।
 ओर वि [दे] ? नाह, सुन्दर (दे १, १६६) । २ समीप (दश० षग० पू०, प्राया० षग० पत्र ८७ ग० ६) ।
 ओरपिअ वि [दे] ? आनात । २ गृ (दि १७१) ।
 ओरपिअ वि [दे] कता वि २७, १ ग

किया हुआ (सुपा ५४२) । ३ दूर किया हुआ (गा १०६) ।
 उन्वाह पु [दे] धर्म, ताप (दे १, ८७) ।
 उन्वाह पु [उद्वाह] विवाह (से २१) ।
 उन्वाह सक [उद् + वाधय्] विशेष प्रकार से पीडित करना । कवक उन्वाहि-ज्जमाण (आचा: णाया १, २) ।
 उन्वाहिअ वि [दे] उत्सित, फेंका हुआ (दे १, १०६) ।
 उन्वाहुल न [दे] १ उत्सुकता, उत्कराठा (भवि. दे १, १३६) । २ वि द्वेष्य, अप्रीतिकर (दे १, १३६) ।
 उन्वाहुलिय वि [दे] उत्सुक, उत्कण्ठित (भवि) ।
 उन्विथाइअ वि [उद्वेदित] उत्पीडित (से १३, २६) ।
 उन्विक्क न [दे] प्रलपित, प्रलाप (षड्) ।
 उन्विग्ग वि [उद्विग्ग] १ खिन्न । २ भीत, घबराया हुआ (हे २, ७९) ।
 उन्विगिर वि [उद्वेगशील] उद्वेग करने-वाला (वाका ३८) ।
 उन्विज्ज देखो उन्विज्ज । उन्विज्जइ (प्राक् ६८), उन्विज्जति (वै ८९) । सक उन्विज्जिऊण (धर्मवि ११९) ।
 उन्विड वि [दे] १ चकित, भीत । २ क्लान्त, क्लेशयुक्त (षड्) ।
 उन्विडिम वि [दे] १ अधिक प्रमाण वाला । २ मर्यादा-रहित, निर्लज्ज (दे १, १३४, च० पत्र २१७-३१९ पत्र) ।
 उन्विण्ण देखो उन्विग्ग (पि २१६) ।
 उन्विद्ध वि [उद्विद्ध] १ ऊँचा गया हुआ, उच्चैः (परह १, ४) । २ गम्भीर, गहरा (नम ८५, णाया १, १) । ३ विद, 'कीलय-त्तएहि धरणिपने उन्विद्धो' (सया ८७) ।
 उन्विद्ध पि [उद्विद्ध] जिमनी ऊँचाई का माप किया गया हो वह (पव १५८) ।
 उन्विस्स देगो उन्विग्ग (हे २, ७९, सुर ४, २५८) ।
 उन्विप्र मा [उद् + विज्] उद्वेग करना, उवागो होना गिन्त होना, 'को उन्विएज्ज नरर । नरउम्म धम्म नत्तवे' (न १२९) ।
 पउ उन्विग्गमाण (स १३६) ।

उन्विज्जणज्ज वि [उद्वेजनीय] उद्वेग-प्रद (पउम १६, ३९, सुपा ५९७) ।
 उन्विरेयग न [उद्विरेचन] खाली करना, 'एव च भरिउन्विरेयणं कुव्वतस्स' (काल) ।
 उन्विल्ल अक [उद् + वेल्] १ चलना, काँपना । २ सक वेष्टन करना । वक्क उन्विल्लत, उन्विल्लमाण (सुपा ८८, उप पु ७७) ।
 उन्विल्ल अक [प्र + सृ] फेलना, पसरना । उन्विल्लइ (भवि) ।
 उन्विल्ल अक [उद् + वेल्] १ तडफडाना, इधर उधर चलना, 'उन्विल्लइ समयोए देवो आसन्नचवणुव्व' (धर्मवि ११२) ।
 उन्विल्ल वि [उद् + वेल्] चञ्चल, चपल (सुपा ३४) ।
 उन्विल्लि वि [उद्वेल्लि] चलनेवाला, हिलनेवाला (सुपा ८८) ।
 उन्विज्ज अक [उद् + विज्] उद्वेग करना, खिन्न होना । उन्विल्लइ (षड्) ।
 उन्विज्ज } देखो उन्विज्ज । उन्विज्जइ, उन्वे-उन्वेअ } अइ (प्राक् ६८) ।
 उन्विज्ज वि [दे] १ क्रुद्ध, क्रोध युक्त (षड्) । २ उद्वेग वेप वाला (पाप्र) ।
 उन्विह सक [उत् + व्यध्] १ ऊँचा फेंकना । २ ऊँचा जाना, उडना, 'सि जहाणा-मए केइ पुरिसे उसु उन्विहइ' (पि १२६) ।
 वक्क 'मणसावि उन्विहताइ अणेगाइ आस-सयाइ पासति' (णाया १, १७ टी—पत्र २३१) । वक्क उन्विहमाण (भा १६) ।
 सक उन्विहिता (पि १२६) ।
 उन्विह पुं [उद्विह] स्वनाम-रयात एक आजीविक मत का उपासक (भा ८, ५) ।
 उन्वी पु [उर्वी] पृथिवी (से २, ३०) । स पु [श] राजा (कुमा) ।
 उन्वीठ देखो उन्वूठ (कुमा, हे १, १२०) ।
 उन्वीठ वि [दे] उल्लास, खोदा हुआ (दे १, १००) ।
 उन्वीठ वि [उद्विद्ध] उल्लिप्त, 'तम्म उमुस्स उन्वीठन्स समाएस्स' (पि १२६) ।
 उन्वील सक [अय + पीडय्] पीडा पहुँचाना, मार-पीट करना । वक्क उन्वीले-माण (राज) ।

उन्वीलय वि [अपत्रीडक] लज्जा-रहित करनेवाला, शिष्य को प्रायश्चित्त लेने में शर्म को दूर करने का उपदेश देनेवाला (पुह) (भा २५, ७, द्र ४९) ।
 उन्वुज्जमाण देखो उन्वह ।
 उन्वुण्ण } वि [दे] १ उद्विग्ग । २ उत्सिक्त ।
 उन्वुज्ज } ३ शून्य (दे १, १२३) । ४ उद्वट, उत्तरण (दे १, १२३, सुर ३, २०५) ।
 उन्वूठ वि [उद् + वूठ] १ धारण किया हुआ, पहना हुआ (कुमा) । २ ऊँचा लिया हुआ, ऊपर धारण किया हुआ (से ५, ५४, ९, ११) । ३ परिणीत, कृत-विवाह (सुपा ४५६) ।
 उन्वेअणोअ वि [उद् + वेजनीय] उद्वेग-कारक (नाट) ।
 उन्वेग पु [उद् + वेग] १ शोक, दिलगिरी (ठा ३, ३) । २ व्याकुलता (भा ३, ६) ।
 उन्वेड सक [उद् + वेष्ट] १ बाँधना । २ धुक् करना, बन्धन-मुक्त करना । उन्वेडइ (षड्), उन्वेडिज्ज (आचा २, ३, २, २) ।
 उन्वेडण न [उद् + वेष्ट] १ बन्धन । २ वि. बन्धन-रहित किया हुआ (राज) ।
 उन्वेडिअ वि [उद् + वेष्टित] १ बन्धन रहित किया हुआ । २ परवेष्टित (दे ४, ४९) ।
 उन्वेत्ताल न [दे] अविच्छिन्न चिह्नाना, निरन्तर रोदन (दे १, १०१) ।
 उन्वेय देखो उन्वेग (कुमा, महा) ।
 उन्वेयग वि [उद् + वेजक] उद्वेग-कारक (रण ४०) ।
 उन्वेयणग } वि [उद्वेजनक] उद्वेग-जनक
 उन्वेयणय } (आळ, परह १, १) ।
 उन्वेयणय पुन [उद्वेजनक] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) ।
 उन्वेल् अक [प्र + सृ] फेलना । उन्वेल्इ (षड्) ।
 उन्वेल् वि [उद् + वेल्] उच्छलित (से २, ३०) ।
 उन्वेल्डिअ वि [उद् + वेल्डित] फैला हुआ, प्रसृत (माल १४२) ।
 उन्वेल्डि देखो उन्वेड । उन्वेल्डि (हे ४, २२३) । कर्म उन्वेल्डिज्ज (कुमा) ।
 उन्वेल्डि सक [उद् + वेल्डि] १ सत्वर जाना । २ त्याग करना । ऊँचा उडना, ऊँचा

ओलिभा स्त्री [दे] उपदेहिका, दीमक (दे १, १५३, गउड)।

ओलिङ्गमाण देखो ओलिह ।

ओलित्त वि [अवलित्त, उपलित्त] लीपा हुआ, कृतलेप (परह १, ३, उव, पाअ, दे १, १५८, श्रौप)।

ओलिन्ती स्त्री [दे] खड्ग आदि का एक दोष (दे १, १५६)।

ओलिप न [दे] हास, हँसी (दे १, १५३)।

ओलिपंपती स्त्री [दे] खड्ग आदि का एक दोष (दे १, १५६)।

ओलिह सक [अव + लिह्] आस्वादन करना। कवक ओलिङ्गमाण (कप)।

ओली सक [अव + ली] १ आगमन करना। २ नीचे आना। ३ पीछे आना, 'नीय च काया श्रोतिर्त' (विसे २०६४)।

ओली स्त्री [आली] पक्ति, श्रेणी (कुमा)।

ओली स्त्री [दे] कुल-परिपाटी, कुलाचार (दे १, १४८)।

ओलुकी स्त्री [दे] बालको की एक प्रकार की स्त्रीडा (दे १, १५३)।

ओलुड सक [वि + रेच्यु] भरना, टपकना, बाहर निकालना। ओलुडइ (हे ४, २६)।

ओलुडिर वि [विरेचयित्] भरनेवाला (कुमा)।

ओलुप पु [अवलोप] मसलना, नर्दन करना (गउड)।

ओलुपअ पु [दे] तापिका-हस्त, तवा का हाथा (दे १, १६३)।

ओलुग वि [अवरुण] १ रोगी, बीमार (पाअ)। २ भग्न, नष्ट (परह १, १), 'बुक्का भुक्का निम्मसा ओलुगा ओलुग-सरीरा' (निर १, १)।

ओलुगा वि [दे] १ सेवक, नौकर। २ निस्तेज, निर्वल, बलहीन (दे १, १६४)। ३ निरुधाय, निस्तेज (सुर २, १०२, दे १, १६४, स ४६६, ५०४)।

ओलुगाविय वि [दे] १ बीमार। २ विरह, पीडित (वज्जा ८६)।

ओलुट्ट वि [दे] १ असघटमान, असगत। २ मिथ्या, असत्य (दे १, १६४)।

ओलेहड वि [दे] १ शन्यासक्त। २ तुण्णा-पर। ३ प्रवृद्ध (दे १, १७२)।

ओलोअ देखो अवलोअ। वक्र. ओलोअत, ओलोएमाण (मा ५. एया १, १६, १, १)।

ओलोट्ट सक [अप + लुट्] पीछे लौटना। वक्र ओलोट्टमाण (राज)।

ओलोयण न [अवलोकन] १ देखना। २ दृष्टि, नजर (उप पृ १२७)।

ओलोयण न [अवलोकन] गवाक्ष, 'विट्ठा अनया तेण ओलोयणणएण' (सुख २, ६)।

ओलोयणा स्त्री [अवलोकना] १ देखना। २ गवेपणा, योज (वव ४)।

ओल पु [दे] १ पति, स्वामी। २ दर-प्रतिनिधि पुरुष, राजपुरुष-विशेष (पिग)।

ओल देखो उल्ल = भाद्र' (हे, १, ८२, काप्र १७२)।

ओल देखो उल्ल = भाद्र'यु। ओल्लेइ (पि १११)। वक्र ओल्लन (से १३, ६६)।

कवक ओल्लज्जत (गा ६२१), ओल्लट्टण पु [अवलट्टन] एक नरक स्थान (देवेन्द्र २८)।

ओल्लण न [आद्रयण] गीला करना, भिजाना (पि १११)।

ओल्लणी स्त्री [दे] माजिता, इलायची, दाल-चीनी आदि मसाला से सज्जत दधि (दे १, १५४)।

ओल्लरण न [दे] स्वाप, सोना (दे १, १६३)।

ओल्लरिअ वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे १६३, सुपा ३१२)।

ओल्लविद (शौ) नीचे देखो (पि १११, मृच्छ १०५)।

ओल्लिअ वि [आद्रित] भाद्र' किया हुआ (गा ३३०, सण)। ओली स्त्री [दे] पत्क, काई, पुजराती मे 'ऊल' (चेइय ३७२)।

ओल्लह सक [वि + ध्यापय्] बुझाना। ठंडा करना। कवक ओल्लहविज्जत (स ३६२)। क ओल्लहवेयव्य (स ३६२)।

ओल्लहविअ वि [दे] देखो उल्लहविय (सुर १०, १४६)।

ओव न [दे] हाथी वगैरह को बधने के लिए किया हुआ गर्त (दे १, १४६)।

ओवअण न [अवपतन] नीचे गिरना, प्रव पात (से ६, ७७, १३, २२)।

ओवइणी स्त्री [अवपातिनी] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से स्वयं नीचे आता है या दूसरे को नीचे उतारता है (सुप्र २, २)।

ओवइय वि [अवपतित] १ अचलीएँ, नीचे आया हुआ (से ६, २८, श्रौप)। २ आ पडा हुआ, आ डटा हुआ (से ६, २६)। ३ न पतन (श्रौप)।

ओवइय पुत्री [दे] तीन इन्द्रियवाला एक सुदृग्जन्तु, 'मि किं त तेइइदिमा ? तेइइदिमा एणे गविहा परएण्णा, त जहा—ओवइया राहं खीया हृत्थिसोडा' (जीव १)।

ओवइय वि [औपचयिक] उपचित, परिपुट (राज)।

ओवगारिय वि [औपकारिक] उपकार करने वाला (भग १३, ६)।

ओवगारिय वि [औपकारिक] उपकार के निमित्त का, उपकारार्थक (देवेन्द्र ३०६)।

ओवग्ग सक [अप + क्रम्] १ व्याप्त करना। २ ढकना, आच्छादन करना।

ओवग्गइ, ओवग्गउ (से ४, २५, ३, ११)। ओवग्ग सक [उप + वल्, आ + ऋम्] १ आक्रमण करना। २ परभाव करना।

ओवग्गइ (भवि)। सक्क ओवग्गिगि (भवि)। ओवग्गइहिय वि [औपग्रहिक] जैन साधुआ के एक प्रकार का उपकरण, जो वारण विशेष से थोड़े समय के लिए लिया जाता है (पव ६०)।

ओवग्गिअ वि [दे उपवल्पात] १ श्रमिन्तु १ आक्रान्त (से ६, ३०, पाअ, सुर १३, ४२)।

ओवग्गइय वि [औपघातिक] उपाय करने वाला, पीडा उपलब्ध करनेवाला, 'गुप या जइ वा दिट्ठ न सनिज्जोवघाइय' (सम ८)। ओवच सक [उप + व्रज्] पाग जाना 'गुहाए ओवच वासहर' (भवि)।

ओवट्ट भव [अप + वृत्] १ पीछे हटना। २ कम होना, ह्रास प्राप्त होना। वट्ट ओवट्टत (उप ७६०)।

ओवट्ट पुं [अपवत्त] १ हास, हानि। २ भागान्तर, (मिमे २०६२)।

उत्सर्गि वि [उत्सर्गिन्] उत्सर्ग—सामान्य नियम—का जानकार (पव ६४) ।

उत्सर्ण वि [अवसन्न] निमग्न, 'अवभे उत्सर्णा' (पव १, ४) ।

उत्सर्ण अ [दे] प्राय, प्रायेण (राज) ।

उत्सर्णसाण्डा व्री [उत्सर्णश्लक्ष्णिका] परिमाण-विशेष, ऊर्ध्व-रेणु का ६४ वां हिस्सा (इक) ।

उत्सर्ण देखो उत्सर्ण = दे (सूत्र २, २, ६५, तदु २७) । 'भाव पु [भाव] बाहुल्यभाव (धर्मस ७५६) ।

उत्सर्ण वि [उत्सर्ण] निज धर्म में आलसी साधु (शुभा १२) ।

उत्सर्पण न [उत्सर्पण] १ उन्नति, पोषण । २ वि उन्नत करनेवाला, बढ़ानेवाला, 'कल्प-व्यपत्सर्पणान्न वयणाद् जपए जा सो' (सुपा ५०६) ।

उत्सर्पणा व्री [उत्सर्पणा] उन्नति, प्रभावना (उप ३२६) ।

उत्सर्पणा व्री [उत्सर्पणा] विख्यात करना, प्रसिद्धि करना (सम्मत १६६) ।

उत्सर्पणी व्री [उत्सर्पणी] उन्नत काल विशेष, दश कोटाकोटि-सागरोम-परिमित काल-विशेष, जिसमें सब पदार्थों की क्रमशः उन्नति होती है (सम ७२, ठा १, १, पउम २०, ६८) ।

उत्सय पु [उत्सय] १ उन्नति, उन्नता (विसे ३४१) । २ अहिना (पव २, १) । ३ शरीर (राज) ।

उत्सयण न [उत्सयण] अभिमान, गर्व (नूप १, ६) ।

उत्सर अक [उत् + स] हटना, दूर जाना । उन्मरह (उन्म ६) ।

उत्सर मत् [उत् + श्रि] १ ऊँचा करना । २ खड़ा करना । उन्नेह, सङ्ग उत्सविता (नप) । प्रयो, सङ्ग. उत्सविय (आचा २ १) ।

उत्सर पु [उत्सर] उन्नत (अभि १६४) ।

उत्सरगया व्री [उत्सरयणा] ऊँचा ढेर करना, सङ्ग करना (भग) ।

उत्सरम प्र [उत् + श्रस] १ उच्छ्वास मना, धान लेना । २ उन्नत होना । उन्न-

सह (भग) । कवक. उत्ससिज्जमाण (ठा १०) ।

उत्ससिय वि [उच्छ्वसित] १ उच्छ्वास-प्राप्त । २ उन्नत (उत् २०) ।

उत्सा व्री [उत्सा] गैया, गौ (दे १, ८६) ।

उत्सा [दे] देखो आसा (ठा ४, ४) ।

°चारण पु [°चारण] ओस के अवलम्बन से गति करने का सामर्थ्यवाला मुनि (पव ६८) ।

उत्सार सक [उत् + सारय] १ दूर करना, हटाना । २ बहुत दिन में पाठनीय ग्रन्थ को एक ही दिन में पढ़ाना । वङ्ग उत्सारित (बृह १) । सङ्ग उत्सारिता (महा) । कृ

उत्सारइद्व (शौ) (स्वप्न २०) ।

उत्सार पु [उत्सार] अनेक दिन में पढ़ाने योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अध्यापन ।

°कल्प पु [°कल्प] पाठन-सबन्धी आचार-विशेष (बृह १) ।

उत्सारग वि [उत्सारक] दूर करनेवाला । २ उत्सार-कल्प के योग्य (बृह १) ।

उत्सारण न [उत्सारण] १ दूरीकरण । २ अनेक दिनों में पढ़ाने योग्य ग्रन्थ का एक ही दिन में अध्यापन, 'अरिहद् उत्सारण काच' (बृह १) ।

उत्सारिय वि [उत्सारित] दूरीकृत, हटाया हुआ (सया ५७) ।

उत्सास पु [उच्छ्वास] १ उसास, ऊँचा श्वास (पव १) । २ प्रवल श्वास (भाव २) ।

°नाम न [°नामन्] उसास-हेतुक कर्म-विशेष (सम ६७) ।

उत्सासय वि [उच्छ्वासक] उसास लेने-वाला (विसे २७१५) ।

उत्साह देखो उच्छ्वाह (सूत्रनि ६२) ।

उत्सिखल वि [उच्छ्खल] स्वैरी, स्वेच्छा-चाटी, निरङ्कुश (उप १४६ टी) ।

उत्सिधिय वि [दे] आघ्रात, सूँघा हुआ (स २६०) ।

उत्सिच सक [उत् + सिच्] १ सिचना, सेक करना । २ ऊपर सिचना । ३ आक्षेप करना । ४ खाली करना, 'पुराण वा नाव उत्सिचेज्जा' (आचा २, ३, १, ११) । उत्सिचति (निचू १८) । वङ्ग. उत्सिचमाण (आचा २, १, ६) ।

उत्सिचण न [उत्सेचन] १ सिञ्चन । २ कृपादि से जल वगैरह को बाहर की खीचना (आचा) । ३ सिञ्चन के उपकरण (आचा २) ।

उत्सिचणा व्री [उत्सेचना] देखो उत्सिचण (उत् ३०, ५) ।

उत्सिक्क देखो उत्सक्क । सङ्ग उत्सिक्किया (दस ५, १, ६३) ।

उत्सिक्क सक [मुच्] छोड़ना, त्याग करना । उत्सिक्कइ (हे ४, ६१) ।

उत्सिक्क सक [उत् + क्षिप्] ऊँचा फेंकना । उत्सिक्कइ (हे ४, १४४) ।

उत्सिक्किय वि [मुक्त] मुक्त, परित्यक्त (कुमा) ।

उत्सिक्किय वि [उत्क्षिप्त] १ ऊँचा फेका हुआ । २ ऊपर रखा हुआ (स ५०३) ।

उत्सिन्न वि [उत्सिन्न] विकारान्त को प्राप्त, अचित्त किया हुआ (दस ५, २, २१) ।

उत्सिय वि [उत्सिन्न] उन्नत, ऊँचा किया हुआ (कप्प) ।

उत्सिय वि [उत्सुत्] १ व्याप्त । २ ऊँचा किया हुआ (कप्प) ।

उत्सिय वि [उत्सुत्] अहकारी (उत् २६, ४६) ।

उत्सीस न [उच्छ्शीर्ष] तकिया (सुपा ४३७, गाया १, १, श्लो २३२) ।

उत्सुआव सक [उत्सुक्य] उत्कण्ठित करना, उत्सुक करना । उत्सुआवेइ (उत्तर ७१) ।

उत्सुक } वि [उच्छ्क्षु] शुल्क-रहित, कर-उत्सुक } रहित (कप्प, गाया १, १) ।

उत्सुक वि [उत्सुक] उत्कण्ठित ।

उत्सुक } न [औत्सुक्य] उत्सुकता (भावक उत्सुग) } ३६८, धर्मस ६५६, ६५७) ।

उत्सुक्काव वि [उत्सुक्य] उत्सुक करना, उत्कण्ठित करना । सङ्ग उत्सुक्कावइत्ता (राज) ।

उत्सुग वि [उत्सुक] उत्कण्ठित (पउम ७६, २९, पव २, ३) ।

उत्सुत्त वि [उत्सुत्त] सूत्र-विच्छेद, सिद्धान्त-विपरीत (वव १, उप १४६ टी) ।

उत्सुय देखो उत्सुग (भग ५, ४, श्रौप) ।

उत्सुय न [औत्सुक्य] उत्कण्ठा, उत्सुकता ।

ओवाह सक [अव + गाह्] श्रवगाहना ।
श्रवाहह (प्राप्र) ।

ओवाह्तिअ वि [अपवाहित] १ नीचे गिराया
हुवा (से ६, १६, १३, ७२) । २ घुमाकर
नीचे डाला हुआ (से ७, ५५) ।

ओविअ वि [दे] १ आरोपित, अव्यासित ।
२ मुक्त, परित्यक्त । ३ हृत, छीना हुआ ।
४ न खुशामद । ५ रवित, रोदन (दे १,
१६७) । ६ वि. परिकर्मित, सत्कारित
(कम्प) । ७ खचित, व्याप्त (आवम) । ८
उज्ज्वलित, प्रकाशित (गाया १, १६) । ९
विभूषित, शृंगारित (प्राप) । देखो उविय ।

ओविद्ध वि [अपविद्ध] १ प्रेरित, आहत
(मे ७, १२) । २ नीचे गिराया हुआ (से १३,
२६) ।

ओवील सक [अव + पीड्य्] पीडा पहुँ-
चाना, मार-पीट करना । वक्त ओवीलोमाण
(गाया १, १८—पत्र २३६) ।

ओवीलय देखो उव्वीलय (पह १, ३) ।

ओवुन्भमाण देखो ओवह ।

ओवेहा स्त्री [उपेक्षा] १ उपदर्शन, देवता ।
२ श्रवधोरण, 'सजयगिहिनोयणचोयणे य
वावारओवेहा' (श्लो १७१ भा) ।

ओव्वण देखो जोव्वण (से ७, ६२) ।

ओव्वत्त अक [अप + वृत्] १ पीछे
फिरना, लौटना । २ श्रवणत होना । सक
ओवत्तिऊण (शोध भा ३० टी) ।

ओव्वत्त वि [अपवृत्त] पीछे फिरा हुआ ।
२ नया हुआ, श्रवणत (से ८, ८४) ।

ओव्वेव्व देखो उव्वेव (सकि ३५) ।

ओस देखो ऊस - ऊप (दस ५, १, ३३) ।

ओस पु [दे] देतो ओसा (राज) । चारण
पु [चारण] हिम के श्रवलम्बन में जाने-
चाला साधु (गच्छे) ।

ओसक सक [अव + ष्वक्] कम करना,
घटाना । सक, ओसकिया (दम ५, १, ६३) ।

ओसक अक [अव + ष्वक्] १ पीछे
हटना, अपसरण करना । २ भागना, पलायन
करना । ३ उदीरण करना, उत्तेजित करना ।
ओसकइ (पि ३०२, ३१५) । वक्त ओसकत,
ओसकमाण (से ५, ७३, स ६४) । सक

ओसकइत्ता, ओसकिय, ओसकऊण
(ठा ८, दस ४, मुर २, १५) ।

ओसक वि [दे अवष्वकित] अपरुत, पीछे
हटा हुआ (दे १, १४६, पाप्र) ।

ओसकण न [अवष्वकण] १ अपसरण (स
६३) । २ नियत काल से पहले करना (वर्म
३) । ३ उत्तेजन (वृह २) ।

ओसकिय वि [अवष्वकित] नियत काल
से पहले किया हुआ (पिंड २६०) ।

ओसकृ अक [वि + सृप्] फेलना, पसरना ।
ओसकृइ (गा ८५६) ।

ओसकृ वि [दे] विकसित, प्रज्वलित (पद्)

ओसडिअ वि [दे] आकीर्ण, व्याप्त (पद्) ।

ओसड न [औपय] दवा, इलाज, भैषज
(हे १, २२७) ।

ओसडिअ वि [औपधिक] वैद्य, चिकित्सक
(कुमा) ।

ओसण न [दे] उद्वेग, खेद (दे १ १५५) ।

ओसण वि [अवसन्न] १ खिल (गा ३८२,
से १३, ३०) । २ शिथिल, ढीला (वव ३) ।
देखो ओसन्न ।

ओसण वि [दे] वृद्धि, खरिडत (दे १,
१५६, पद्) ।

ओसण अ [दे] प्राय बहुत कर (कम्प) ।

ओसत्त वि [अवसक्त] संबद्ध, समुक्त (गाया
१, ३, स ४४६) ।

ओसधि देखो ओसहि (ठा २, ३) ।

ओसद्ध वि [दे] पातित, गिराया हुआ (पाप्र) ।
ओसन्न देखो ओसण = श्रवमन (मुर ४,
३४, गाया १, ५, स ६, पुष्क २१) । ३
न एकान्त, 'श्रोतने देइ गेएहइ वा' (उव) ।

ओसन्न वि [अवसन्न] निमग्न (दसू १,
८) ।

ओसन्न देखो ओसण (कम्म १, १३, विते
२२७५) ।

ओसपिणी स्त्री [अवसपिणी] दश कोटा-
कोटि सागरोपमपरिमित काल-विशेष, जिसमें
सर्व पदार्थों के गुणों को क्रमशः हानि होती
जाती है (सम ७२, ठा १) ।

ओसम सक [उप + शमय्] उपसान्
करना । भवि. श्रोसमेहति (पिंड ३२६) ।

ओसमिअ वि [उपशमित] शान्ति प्राप्ति
(सम ३७) ।

ओसर अक [अव + त्] १ नीचे आना ।
२ श्रवतरना, जन्म लेना । ओसरइ (पद्) ।

ओसर अक [अप + सृ] अपसरण करना,
पीछे हटना । २ सरकना, खिसकना, फिस
लना । ओसरइ (महा, काल) । वक्त ओसरन
(गा १८, ३६३, से ६, २६, ६, ८२, १२,
६, से ६३) ।

ओसर सक [अव + सृ] आना, तीव्रकर
आदि महापुरुष का पधारना (उप ७२८ टी) ।

ओसर पु [अवसर] १ श्रवसर, समय (सूत्र
१, २) । २ अन्तर (राज) ।

ओसरण न [अवसरण] १ जिन देव का
उपदेश स्थान (उप १३३, खण १) । २
साधुओं का एकत्रित होना (सूत्र १, १२) ।

ओसरण न [अपसरण] १ हटना, दूर होना ।
२ वि दूर करनेवाला, 'बहुपावकम्मभासरण'
(कुमा १) ।

ओसरिअ वि [दे] १ आकीर्ण, व्याप्त । २
श्राद्ध के इशारे से संकेतित या इंगित (पद्) ।
३ अशोभ, श्रवणत । ४ न श्राद्ध का इशारा
(दे १, १७१) ।

ओसरिअ वि [अवसृत] आगत, पवारा हुआ
(उप ७२८ टी) ।

ओसरिअ वि [अपसृत] १ पीछे हटा हुआ
(पउम १६, २३, पाप्र, गा ३५१) । २ न,
अपसरण (मे २, ८) ।

ओसरिअ वि [उपसृत] समुवागत, मानन
आया हुआ, (पाप्र) ।

ओसरिआ स्त्री [ट] अलिन्दा वाहन में दत्त
वाजे का प्रकोष्ठ (दे १, १६१) ।

ओसय पु [उत्सव] उमन, श्रान्त-भाग
(प्राप्र) ।

ओसविय देतो ओममिअ (पि ३०५) ।
ओमविय वि [उच्चूयिन] ऊँचा किया हुआ
(पउम ८, २६६) ।

ओसविअ वि [दे] १ शोभा रहित । २ न
श्रवणत, खेद (दे १, १६८) ।

ओसह न [औपय] दवा, भैषज (शोध-
स्य ५६) ।

कुमा) । °जाल न [°जाल] जाँघ तक लटकने-
वाला एक आम्रपण (श्रौप) ।

ऊरुद्वय वि [ऊरुद्वय] जघा-प्रमाण (गहरा
बौरह) (पङ्) ।

ऊरुद्वयस वि [ऊरुद्वयस] ऊपर देखो
(पङ्) ।

ऊरुमेत वि [ऊरुमात्र] ऊपर देखो (षड्) ।

ऊल पु [दे] गति-भग (दे १, १३९) ।

°ऊल देखो कूल (गा १=६) ।

ऊस पु [उत्स] किरण (हे १, ४३) ।

°मालि पु [°मालिन्] सूर्य (कुमा) ।

ऊस पु [ऊप] क्षार-भूमि की मिट्टी (पण्ण १,
जी ४) ।

ऊसअ न [दे] उपवान, उसीसा, तकिया (दे
१, १४०, पङ्) ।

ऊसढ वि [उत्सृष्ट] १ परित्यक्त । २ न
उत्सर्जन, मलादि का त्याग, 'नो तत्थ ऊसढ
पन्नेत्वा, त जहा, उच्चारं वा' (आचा २, २,
१, ३) ।

ऊसढ वि [दे उच्छ्रित] १ उच्च, श्रेष्ठ
(आचा २, ४, २, ३, जीव ३) । २ ताजा,
'भद् भद्पति वा, ऊमढ ऊमढेति वा, रतिय
रसिप ति वा' (आचा २, ४, २, २) ।

ऊसण न [दे] गति भङ्ग (दे १, १३६) ।

ऊसण्हसण्हया देखो उस्सण्हसण्हया (पव
२४४) ।

ऊसत्त देनो उस्सत्त (कप्प, श्रावम) ।

ऊसत्थ पु [दे] १ जम्माई । २ वि आकुल
(दे १, १४३) ।

ऊसर शक [उन् + सृ] १ विसकना । ३ दूर
होना । ३ शक त्यागना । ऊसरइ (भवि)
वट ऊसरिवि (भवि) ।

ऊसर न [ऊपर] क्षार-भूमि, जिसमे बीज
नहीं पैदा होना हे, 'ऊसरदवदलियदड्टल्कखना-
एण' (मम्म १७, भक् ७३) ।

ऊसरण न [उत्सरण] श्रावण, 'थाणूमरण
त्था णुपयण' (विने १२०=) ।

ऊसर पु [उच्छ्रय] १ उल्लेख, ऊँचाई । २
उत्थापन (जीवम १०८) ।

ऊसन धा [उन् + लस्] उन्नत होना ।
ऊसन (हे ४, २०२ पङ् कुमा) ।

ऊसल वि [दे] पीन पुष्ट (दे १, १४०) ।

ऊसल्लिअ वि [उल्लसित] उल्लसित, पादुभूत

ऊसल्लिअ वि [दे] रोमान्वित, पुलकित
(दे १, १४१; पात्र) ।

ऊसव देखो उस्सव = उत्सव (स्वप्न ६३) ।

ऊसव देखो उस्सव = उव् + श्रि । उस्सवेह
(पि ६४, ५५१) । सक्र ऊसविय (कप्प,
भग) ।

ऊसविअ वि [दे] १ उद्भ्रान्त (दे १, १४३) ।

२ ऊँचा किया हुआ (दे १, १४३, णाया
१, ८, पात्र) । ३ उद्भ्रान्त, वमित (षड्) ।

ऊसविय वि [उच्छ्रित] ऊर्ध्व-स्थित (कप्प) ।

ऊसस सक [उत् + श्वस्] १ उसांस
लेना, ऊँचा सांस लेना । २ विकसित होना ।

३ पुलकित होना । ऊससइ (पि ६४, ३१५) ।

वक्र ऊससत, ऊससमाण (गा ७४,
घण ४, पि ४६६) ।

ऊससण न [उच्छ्रवसन] उसांस । °लद्धि
की [°लद्धि] श्वासोच्छ्वास की शक्ति
(कम्म १, ४४)

ऊससिअ न [उच्छ्रवसित] १ उसांस
(पडि) । २ वि उल्लसित । ३ पुलकित
(स ८३) ।

ऊससिर वि [उच्छ्रवसितृ] उसांस लेने-
वाला (हे २, १४५) ।

ऊसाअत वि [दे] खेद होने पर शिथिल
(दे १, १४१) ।

ऊसाइअ वि [दे] १ विभ्रित । २ उत्क्षिप्त (दे
१, १४१) ।

ऊसार सक [उत् + सारय्] दूर करना,
त्यागना । सक्र ऊसारिवि (श्रप) (भवि) ।

ऊसार पु [दे] गर्त-विशेष (दे १, १४०) ।

ऊसार पु [उत्सार] परित्याग (भवि) ।

ऊसार पु [आसार] वग वाली वृष्टि (हे १,
७६, पङ्) ।

ऊसारि वि [आसारिन्] वेग से वरमनेवाला
(कुमा) ।

ऊसारिअ वि [उत्सारित] दूर किया हुआ
(महा, भवि) ।

ऊसास पु [उच्छ्रवास] १ उसास, ऊँचा
श्वाम (आचू ५) । २ मरण (वृह १) ।

°णाम न [°नामन्] कर्म विशेष (कम्म १,
४४) ।

ऊसासय वि [उच्छ्रवासक] उसास लेने-
वाला (विसे २७१४) ।

ऊसासिअ वि [उच्छ्रवासित] बाधा-रहित
किया हुआ (दे १२, ६२) ।

ऊसाह पु [उत्साह] उत्साह, उच्छाह (मा
१०) ।

ऊसि सक [उत् + श्रि] ऊँचा करना, उन्नत
करना । सक्र ऊसिया (उत् १०, ३५) ।

ऊसिक्क सक [उत् + ष्वक्] ऊँचा करना ।
सक्र ऊसिक्किअण (भग १, ८ टी) ।

ऊसिक्किअ वि [दे] प्रदीप्त, शोभायमान
(पात्र) ।

ऊसित्त वि [उत्सित्त] १ गवित । २ उद्धत ।
३ बढा हुआ । ४ श्रुतिशायित (हे १, ११४) ।

ऊसित्त वि [अवसित्त] उपलित (पात्र) ।

ऊसिय देखो उस्सिय = उच्छ्रित (श्रौप, कप्प,
सण्ण) ।

ऊसीस } न [उच्छ्रीर्ष, °क] उसीसा,
ऊसीसग } सिरहाना (णाया १, ७, पात्र,
ऊसीसय } सुपा ५३, १२०) ।

ऊसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित (गा ५४३,
कुमा) ।

ऊसुअ वि [उच्छ्रुक] जहा से शुक उदगत
हुआ हो वह (हे १, ११४) ।

ऊसुइअ वि [उत्सुकित्] उत्सुक किया हुआ
(गा ३१२) ।

ऊसुभ शक [उन् + लस्] उल्लसित होना ।
ऊसुभइ (हे ४, २०२) ।

ऊसुभिअ वि [उल्लसित] उल्लास-प्राप्त
(कुमा) ।

ऊसुभिअ न [दे] १ रोदन-विशेष, गला वैठ
जाय ऐसा रुदन (दे १, १४२, पङ्) ।

ऊसुक्किअ वि [दे] विमुक्त, परित्यक्त (दे १,
१४२) ।

ऊसुग देखो ऊसुअ=उत्सुक (उप ५६७ टी) ।

ऊसुग न [दे] मध्य भाग (आचा २, १,
८, ६) ।

ऊसुग्गिअ वि [दे] उसीसा या सिरहाना
किया हुआ (पङ्) ।

ऊसुर न [दे] ताम्बूल, पान (हे २, १७४) ।

ऊसुरुसुभिअ [दे] देखो ऊसुभिअ (दे १,
१४२) ।

ओहट्ट } वि [अपघट्ट] निवारक, हटाने-
ओहट्टय } वाला निषेधक (विपा १, २,
राया १, १६, १८)।

ओहट्टिअ वि [दे] दूसरे को द्वाकर हाथ से
गृहीत (दे १, १५६)।

ओहट्ट पुं [दे] हास, हंसी (दे १, १५३)।

ओहट्ट वि [अवघृष्ट] घिसा हुआ (पउम
३७, ३)।

ओहड वि [अपहृत] नीचे लाया हुआ (दस
५, १, ६६)।

ओहडणी ली [दे] अगला (दे १, १६०)।

ओहत्त वि [दे] अवनत (दे १, १५६)।

ओहत्तिअ वि [अपहस्तित] परिलयक, दूर
किया हुआ (मै ३५)।

ओह्य वि [उपहृत] उपघात-प्राप्त (राया
१, १)।

ओह्य वि [अवहृत] विनाशित (श्रौप)।

ओहर सक [अप + ह्] अपहरण करना।
कर्म ओहरीआमि (पि ६८)।

ओहर अक [अव + ह्] टेढा होना, बक्र
होना। २ सक उलटा करना। ३ फिराना।
सक ओहरिय (प्राचा २, १, ७)।

ओहर न [उपगृह] छोटा गृह, कोठरी (परह
१, १)।

ओहरण न [अपहरण] उठा ले जाना,
अपहार (उप ६७६)।

ओहरण न [दे] १ विनाशन, हिंसा। २

असभव अर्थ की सम्भावना (दे १, १७४)।

३ अन्न, हथियार (स ५३१, ६३७)। ४
वि आघात (पड्)।

ओहरिअ वि [दे. अपहृत] १ फेंका हुआ
(से ३३, ३)। २ नीचे गिराया हुआ (से
३, ३७)। ३ उतारा हुआ, उतारित (श्लो
८०६)। ४ अपनीत, 'ओहरिअमच्छ्व भार-
वहो' (श्रा ४०)।

ओहरिस वि [दे] १ आघात, सूँघा हुआ।
२ पु चन्दन घिसने की शिला, चन्द्रौटा (दे
१, १६६)।

ओहल देखो उजखल (हे १, १७१, कुमा)।

ओहल सक [अव + खल्] घिसना। भवि-
ओहलिही (सुपा १३६)।

ओहलिय वि [अवखलित] घिसा हुआ,
'असुजलोहलियगड्यलो' (सुर २, १८६,
सण)।

ओहली ली [दे] श्लोच, समूह (सुपा ३६४)।

ओहस सक [उप + हस्] उपहास करना।

ओहसइ (नाट)। कवक ओहसिज्जत (से
१५, १०)। क ओहसणिज्ज (स ८)।

ओहसिअ न [दे] १ वस्त्र, कपडा। २ वि.
घृत, कम्पित (दे १, १७३)।

ओहसिअ वि [उपहसित] जिसका उपहास
किया गया हो वह (ग, ६०, दे १, १७३,
स ४४८)।

ओहाइअ वि [दे] अघो-मुख (१, १५८)।

ओहाइअ वि [अवधावित] चरित्र से अट
(दस १, १)।

ओहाडण न [अवघाटन] प्रार्थित-विशेष
(वव १)।

ओहाडण न [अवघाटन] ढकना, पिघान
(वव १)।

ओहाडणी ली [दे अवघाटनी] १ पिघानी
(दे १, १६१)। २ एक प्रकार की ओढनी
(जीव ३)

ओहाडिय वि [अवघाटित] १ पिहित, बन्द
किया हुआ, 'वद्धरामयकवाओहाडियाओ' (ज
१—पत्र ७१)। २ स्थगित (आव ५)।

ओहाण न [उपधान] स्थगन, ढकना (वव ४)।

ओहाण न [अवधान] उपयोग, ब्याल
(प्राचा)।

ओहाण न [अवधान] अवक्रमण, पीछे
हटना (निवृ १६)।

ओहाम सक [तुलय्] तौलना, तुलना
करना। ओहामइ (हे ४, २५)। वक
ओहामत (कुमा)।

ओहामिय वि [तुलित] तौला हुआ (पाम्र,
सुपा २६६)।

ओहामिय वि [दे] १ अभिमृत (पड्)।
२ तिरस्कृत (स ३१३, श्लो ६०)। ३ बन्द
किया हुआ, स्थगित, 'जह वीणावसरवा

खण्ण आहामिआ सव्वा' (पउम ४६, ६)।

ओहार सक [अव + धारय्] निश्चय
करना। सक ओहारिअ (अभि १६४)।

ओहार पु [दे] १ कच्छप। २ नदी वगैरह
के बीच की शुष्क जगह, द्वीप। ३ अश,
विभाग (दे १, १६७)। ४ जलचर-जन्तु
विशेष (परह १, ३)।

ओहार पु [अवधार] निश्चय। 'व वि
[वत्] निश्चयवाला (द्व ४६)।

ओहारइत्तु वि [अवधारयित्] निश्चय करने-
वाला (राज)।

ओहारइत्तु वि [अवधारयित्] दूसरे पर
मिथ्याभियोग लगानेवाला (राज)।

ओहारण न [अवधारण] नियम, निश्चय
(द्व २)।

ओहारणी ली [अवधारणी] निश्चयात्मक
भाषा, 'ओहारणी अप्पियकारिणि च भासं न
भासिज्ज सया स पुज्जे' (दस ८, ३)।

ओहारिणी ली [अवधारिणी] ऊपर देखो
(भास १४)।

ओहाव सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना।
ओहावइ (हे ४, १६०, पड्)।

ओहाव अक [अव + धाव्] पीछे हटना।
वक ओहावत, ओहावेंत (श्लो १२६-
वव ८)।

ओहावण न [अवधान] १ अपसर्पण,
पलायन (वव १)। २ वीक्षा से भागना, वीक्षा
को छोड़ देना (वव ३)।

ओहावण न [अवधान] अपमान, अपकीर्ति
(पिड ४८६)।

ओहावणा ली [अपहापना] लाघव, लघुता
(जय २६)।

ओहावणा ली [अपभावना] तिरस्कार,
अनादर (उप १२६ टी, स ४१०)।

ओहावणा ली [आक्रान्ति] आक्रमण
(काल)।

ओहाविअ वि [अपभावित] १ तिरस्कृत
(सुपा २२४)। २ ग्लान, ग्लानि प्राप्त (वव
८)।

ओहाविअ वि [अवधावित] पलायित, अप
सृत (दस १, २)।

ओहास पु [अवहास, उपहास] हँसी,
हास्य (प्राप्र, मै ४३)।

ओहासण न [अवभाषण] याचना, माग,
विशिष्ट शिक्षा (आव ४)।

[°नवत] ६१ वां (पउम ६१, ३०)।
 [°रसम वि [°दश] ग्यारहवां (विना १,
 १, उवा. सुर ११, २५०)। [°रह वि व
 [°दशान्] ग्यारह, दश और एक (पड्)।
 [°सीइ स्त्री [°शीति] सख्या-विशेष, एकासी
 (सम ८८)। [°सीइविह वि [°शीतिविह]
 एकामी तरह का (पएण १, १७)। [°सीय वि
 [°शीत] एकासीवां, ८१ वां (पउम ८१,
 २६)। [°त्तरसय वि [°त्तरशततम] एक
 सो एक वां, १०१ वां (पउम १०१, ७६)।
 [°योर पु [°दर] सहोदर भाई, सगा भाई
 (पउम ६, ६०, ४६, १८)। [°यूरा स्त्री
 [°दरा] सगी बहिन (पउम ८ १०६)।
 एक वि [एकक] अकेला (हेका ३१)।
 एक नि [दे] स्नेह-गर, प्रेम-तत्पर (दे १,
 १४४)।
 एकडे (अप) वि [एकाकिन्] एकाकी,
 अकेला (अवि)।
 एकग न [दे] चन्दन, सुगन्धि काष्ठ-विशेष
 (दे १, १४४)।
 एकन पु [एगन्त] १ सर्वथा। २ तत्त्व,
 प्रमेय। ३ जल, अवश्य। ४ असाधारणता,
 विशेष (से ४, २३)। ५ निर्जन, निराला (गा
 १०२)। देखो एगत।
 एकनक वि [एकैक] हर एक, प्रत्येक
 (नाट)।
 एकनकम [दे] देखो एककेकम (से ५,
 ५६)।
 एकगमित्य न [एकसिकथ] तपो-विशेष
 (पव २७१)।
 एकनगा देवो एग गग = एक-क (कुप्र ७६)।
 एकनगरिष्ठ पु [दे] देवर, पति का छोटा
 भाई (दे १ १४६)।
 एकगड पु [दे] कयक, कया कहनेवाला (दे
 १, १४४)।
 एकगुड नि [दे] १ धर्म-रहित, निवर्मी। २
 अति, निर्धन। ३ प्रिय, छट (दे १, १४८)।
 एकमेय नि [एकैक] प्रत्येक, हर एक
 (र ३, १, पट्, युमा)।
 एकट नि [दे] प्रवन, बलवान् (पड्)।
 एकटपुटिग न [दे] विरल-निन्दु-वृष्टि, प्रत्य
 निन्दुगर्ण चारिण (दे १, १४७)।

एकसरिअं अ [दे] १ शीघ्र, तुरन्त। २
 सप्रति, आजकल (हे २, २१३, पड्)।
 एकसिआ अ [दे] शीघ्र, जलदी (प्राकृ
 ८१)।
 एकसाहिह वि [दे] एक स्थान मे रहने-
 वाला (दे १, १४६)।
 एकसिबली स्त्री [दे] शाल्मली-पुष्पो से तृतन
 फलवाली (दे १, १४६)।
 एकसेस देखो एग-सेस (अणु १४७)।
 एकह देखो एग (प्राकृ ३५)।
 एककार देखो एककारह (कम्म ६, १६)।
 एककार पु [अयस्कार] लोहार (हे १, १६६,
 कुमा)।
 एककी स्त्री [एका] एक (स्त्री) (निचू १)।
 एककूण देखो अउण (पि ४४५)।
 एककेकम वि [दे] परस्पर, अन्योन्य (दे १,
 १४५), 'सुहडा एककेकम अपेच्छता' (पउम
 ६८, १५)।
 एककेह } देखो एग (प्राकृ, ३५)।
 एककोह }
 एग स [एक] १ एक, प्रथम-सख्या (अणु)।
 २ एकाकी, अकेला (ठा ४, १)। ३ अद्वितीय
 (कुमा)। ४ असहाय, नि सहाय (विपा १,
 २)। ५ अन्य, दूसरा, 'एवमेगे वदति मोसा'
 (पएह १, २)। ६ समान, सदृश, तुल्य
 (उवा)। 'इय देखो एग, 'अत्येगइयाण
 नेरइयाण एग पलिओवम ठिई पन्नत्ता' (सम
 २, ठा ७, औप)। 'इय वि [°क] अकेला,
 एकाकी (भग)। 'ओ अ [°तस्] एक
 तरफ (कप्प)। 'क्खरिय वि [°त्तरिक]
 एक अक्षरवाला (नाम) (अणु)। 'खधी
 स्त्री [°स्कन्ध] एक स्कन्धवाला (वृक्षवगैरह)
 (जीव ३)। 'खुर वि [°खुर] एक खुरवाला
 (गौ वगैरह पशु) (पएण १)। 'ग वि
 [°क] एकाकी, अकेला (आ १४)। 'ग
 वि [°ग्र] तल्लीन, तत्पर (सुर १, ३०)।
 'क्खखु वि [°क्खुक्ख] एक आँखवाला,
 एकाक्ष, काना (पएह २, ५)। 'चत्ताल वि
 [°चत्वारिंश] एकतालीसवां (पउम ४१,
 ७६)। 'चर वि [°चर] एकाकी विहरने-
 वाला (आचा)। 'चरिया स्त्री [°चर्या]
 एकाकी विहरता (आचा)। 'चारि वि

[°चारिन्] अकेल-विहारी (सूअ १, १३)।
 'चूड पुं [°चूड] विद्यावर वश का एक
 राजा (पउम ५, ४५)। 'च्छत्त वि
 [°च्छत्र] १ पूर्ण प्रभुत्ववाला, अकण्टक,
 'एगच्छत्त ससागर भुजिऊण वसुह' (पएह २,
 ४)। २ अद्वितीय (काप्र १८६)। 'जडि
 वि [°जटिन्] महाग्रह-विशेष (ठा २, ३)।
 'जाय वि [°जात] अकेला, निस्सहाय,
 'खगविसाए व एगजाए' (पएह २, ५)।
 'ट्ट वि [°स्थ] इकट्टा, एकत्रित (भग १४,
 ६, उप पृ ३४१)। 'ट्ट वि [°थ] एक
 अर्थवाला, पर्याय-शब्द (श्रीव १ भा)। 'ट्ट,
 'ट्ट अ [°त्र] एक स्थान मे, 'मिलिया मव्वेवि
 एगटठ' (पउम ४७, ४४)। 'ट्टिय वि
 [°थिक] एक ही अर्थवाला, समानार्थक,
 पर्याय-शब्द (ठा १)। 'ट्टिय वि [°स्थिक]
 जिसके फल मे एक ही बीज होता है ऐसा
 आम वगैरह का पेड (पएण १)। 'णासा स्त्री
 [°नासा] एक दिक्कुमारो, देवी-विशेष
 (आव १)। 'त्त न [°त्र] एक ही स्थान
 मे, 'एगत्ते ठिओ' (स ४७०)। 'त्य देखो
 'ट्ट (सम्म १०६, निचू १)। 'नासा देखो
 'णासा (ठा ८)। 'पए अ [°पदे] एक
 ही साथ, युगपत् (पि १७१)। 'पक्ख वि
 [°पत्त] १ असहाय (राज)। २ ऐकान्तिक,
 अविच्छेद (सूअ १, १२)। 'पत्तास स्त्री
 [°पञ्चाशत्] एकावन, पचास और एक।
 'पत्तासइम वि [°पञ्चाशत्तम] एकावनवां,
 ५१ वां (पउम ५१, २८)। 'पाइअ वि
 [°पादिक] एक पाँव ऊँचा रखनेवाला
 (आतापना मे) (कस)। 'पासग वि
 [°पाश्वैक] एक ही पार्श्व की भूमि से
 सम्बन्ध रखनेवाला (आतापना मे) (पएह
 २, १)। 'पासिय वि [°पाश्वैक] देखो
 पूर्वोक्त अर्थ (कस)। 'भत्त न [°भक्त]
 व्रत-विशेष, एकासन (पचा १२)। 'भूय वि
 [°भूत] १ एकीभूत, मिला हुआ (ठा १)।
 २ समान (ठा १०)। 'मण वि [°मनस्]
 एकाग्रचित्त, तल्लीन (सुर २, २२६)।
 'मेग वि [°एक] प्रत्येक, हर एक (सम
 ६७)। 'य वि [°क] एकाकी, अकेला
 (वस ५)। 'य वि [°ग] अकेला जानेवाला
 (उत्त ३)। 'यर वि [°तर] दो मे से कोई

कइअक } पुं [दे] निकर, समूह (दे २,
कइअकसइ } १३) ।

अइअव न [कौतव] कपट, दम्भ (कुमा, प्राप्र) ।
कइआ अ [कदा] कब, किस समय ? (गा
१३८, कुमा) ।

कइउल्ल वि [दे] थोडा, अल्प (दे १, २१) ।
कइंद पुं [कवीन्द्र] श्रेष्ठ कवि (गडड) ।

कइकच्छु स्त्री [कपिकच्छु] वृक्ष-विशेष,
केवाँच, कौँल, कवाछ (गा ५३२) ।

कइगई स्त्री [कैकयी] राजा दशरथ की एक
रानी (पउम ६५, २१) ।

कइत्य पुं [कपित्य] १ वृक्ष-विशेष, कैय का
पेड । २ फल-विशेष, कैय, कैया (गा ६४१) ।
कइम वि [कतम] बहुत मे से कौन सा ? (हे
१, ४८, गा ११६) ।

कइयव्य देखो कइअव (तदु ५३) ।

कइयहा (अप) अ [कदा] कब, किस समय ?
(सण) ।

कइयाइ अ [कदाचित्] किसी समय मे
(कुप्र ४१३) ।

कइर देखो कइर = कतर (पिड ४६६) ।

कइर पु [कदर] वृक्ष विशेष, 'ज कइरखख-
हिट्टा इह दगकोडी दविएणमथि' (श्रा १६) ।

कइरव न [कौरव] कमल, कुमुद (हे १, १५२) ।

कइरव पुन [कौरव] कुमुद, 'कइरवो' (सक्षि ५) ।

कइरविणी स्त्री [कौरविणी] कुमुदिनी, कमलिनी
(कुमा) ।

कइलास पु [कैलास, °श] १ स्वनाम-ख्यात
पर्वत विशेष (प्राप्र, पउम ५, ५३, कुमा) ।

२ मेरु पर्वत (निचू १३) । ३ देव-विशेष,
एक नाग-राज (जीव ३) । °सय पु [°शय]
महादेव, शिव (कुमा) । देखो कैलास ।

कइलासा स्त्री [कैलासा, °शा] देव-विशेष
की एक राजधानी (जीव ३) ।

कइल्लमइल्ल पु [दे] स्वच्छन्द चारी बैल
(दे २, २५) ।

कइविया स्त्री [दे] बरतन विशेष, पीकदान,
पीकपानी (गाया १, १ टी—पत्र ४३) ।

कइस (अप) वि [कीदश] कैसा (कुमा) ।

कइया (अप) देखो कइया (सुपा ११६) ।

कइयय देखो कइयय (पउम २८, १६) ।

कईस पु [रुथोश] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि
(पिग) ।

कईसर पु [कवीश्वर] उत्तम कवि (रंभा) ।
कउ पु [कतु] यज्ञ (कप्पू) ।

कउ (अप) अ [कृत] कहाँ से (हे ४, ४१६) ।

कउअ वि [दे] १ प्रधान, मुख्य । २ पुन
चिन्ह, निशान (दे २, ५६) ।

कउच्छेअय पु [कौच्छेअय] पेट पर बँधी हुई
तलवार (हे १, १६२, पड्) ।

कउड न [दे ककुद] देवी कउड = ककुद
(पड्) ।

कउरअ } पुं [कौरव] १ कुरु देश का
कउरव } राजा । २ पुत्री कुरु वंश मे
उत्पन्न । ३ वि कुरु (देश या वंश) से सवन्व
रखनेवाला । ४ कुरु देश मे उत्पन्न (प्राप्र,
नाट, हे १, १६२) ।

कउल न [दे] १ करीप, गोईठा का चूर्ण (दे
२, ७) ।

कउल न [कौल] तान्त्रिक मत का प्रवर्तक
ग्रन्थ, कौलोपनिषद् वगैरह । २ वि शक्ति का
उपासक । ३ तान्त्रिक मत को जाननेवाला ।
४ तान्त्रिक मत का अनुयायी । ५ देवता-
विशेष,

'विससिज्जतमहापसुद-
सणसभमपरोप्पराल्हा ।
गयणे च्चिय गवर्जंड
कुराति तुह कउलणारीओ'
(गडड) ।

कउलव देखो कउरव (चड) ।
कउसल पुन [कौशल] चतुराई, 'कउसलो'
(सक्षि ६, प्राक् १०) ।

कउसल न [कौशल] कुशलता, दक्षता,
होशियारी (हे १, १६२, प्राप्र) ।

कउह न [टे] नित्य, सदा, हमेशा (दे २ ५) ।

कउह पुन [ककुद] १ बैल के कंधे का
कुब्बड़ । २ सफेद छत्र वगैरह राज-चिह्न ।
३ पर्वत का अग्रभाग, टोच (हे १, २२५) ।
४ वि प्रधान, मुख्य,

'कलरिभियमहुनतीतलतालवसकउहाभिरामेसु ।
सहेसु रजजमाणा, रमती सोइदियवसट्टा ।'
(गाया १, १७) । देखो ककुद ।

कउहा स्त्री [ककुम्] १ दिशा (कुमा) । २
शोभा, कान्ति । ३ चम्पा के पुष्पों की माला ।

४ इस नाम की एक रागिणी । ५ शाव ।
६ विकीर्ण केश (हे १, २१) ।

कउहि वि [ककुदिन्] वृषभ, बैल (अणु
१४२) ।

कए } अ [कृते] वास्ते, निमित्त, लिए-
कएण } 'ततो सो तस्स कए, खणेइ खाणो-
कएण } उणेगठाणेसु' (कुमा १५, कुमा),
'श्वरएहमजिरीण कएया कामो वहह चाव'
(गा ४७३),
'लजा चत्ता सील च
खंडिअ अजसघोसणा दिएणा ।
जस्स कएण पिअसहि ।
सो चेअ जणो जणो जाओ'
(गा ५२५) ।

कएल्ल वि [कृत] किया हुआ (सुख
२, १५) ।
कओ अ [कृत] कहाँ से ? (आचा, उव,
रयण २६) । °हुत्त क्रि वि [दे] किस तरफ
'कओहुत्त गतव्व ?' (महा) ।
कओ अ [क] कहाँ, किस स्थान मे, 'कओ
वयामो ?' (गाया १, १४) ।
कओणह वि [कटुण्ण] थोडा गरम (धमवि
११२) ।
कओल देखो कयो (से ३, ४६) ।
क अ [कम्] उदक, जल (तदु ५३) ।
कइ अ [दे] किससे, 'कइ पइ सिक्खिउ ए
गदलालस' (विक १०२) ।
कक पु [कङ्क] १ पक्षि विशेष (परह १, १,
४, अनु ४) । २ एक प्रकार का मजदूर
श्रौर तीक्ष्ण लोहा (उप ४६४) । ३ वृक्ष-
विशेष, 'ककफलसरलनयण—' (उप १०३१
टी) । °पत्त न [°पत्र] बाण-विशेष, एक
प्रकार का बाण, जो उड़ता है (वेणी १०२) ।
°लोह पुन [°लेह] एक प्रकार का लोहा
(उप ४ ३२६, सुपा २०७) । °वत्त देखो
°पत्त (नाट) ।
ककइ पुं [कङ्कवि] वृक्ष-विशेष, नागवला-
नामक श्रोत्रवि (उप १०३१ टी) ।
ककउ पु [कङ्कट] बर्मे, कवच, 'रामो चावे
सकके दिट्ठी देंतो' (पउम ४४, २१, श्रौप) ।
कंकडइय वि [कङ्कटित्] कवचवाला, वर्मित
(परह १, ३) ।

एजमाण देखो ए = आ + इ ।
 एड मक [एड्] छोडना, त्याग करना ।
 एडेइ (भग) । कवक एडिजमाण (साया १, १६) । सक्र एडित्ता (भग) । कृ एडेयन् (साया १, ६) ।
 एड सक [एड्य्] हटाना, दूर करना ।
 एडेइ, सक्र एडेत्ता (साय १८) ।
 एडक पु [एडक] मेप, भेड (उप पृ २३४) ।
 एडया स्त्री [एडया] मेडी (पड्) ।
 एण पु [एण] कृष्ण मृग, हरिण (कप्पू) ।
 'णाहि स्त्री [नाभि] कस्तूरी (कप्पू) ।
 एणक पु [एणाक] चन्द्र, चन्द्रमा (कप्पू) ।
 एणित्ति वि [एणिय] हरिण-सबन्धी, हरिण या (मास वगैरह) (राज) ।
 एणित्तिय पु [एणियक] स्वनाम-ख्यात एक राजा, निम्ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८) ।
 एणित्तिय पु [एणिस] वृक्ष विशेष (उप १०३१ ट) ।
 एणित्तिय पु [एणी] हरिणी (पात्र, परह १, ४) ।
 एणित्तिय पु [चार] हरिणी को चरानेवाला, चरानेवाला (परह १, १) ।
 एणित्तिय पु [दे] नेक, मेडक (दे १ १४७) ।
 एणित्तिय पु [विपा] विपा (विपा १, ८) ।
 एणित्तिय पु [इदानीम्] अधुना, सप्रति (महा, हे २, १३४) ।
 एणित्तिय पु [एत्तिअ = एतावत्, 'एतावत् नर-प्रा' (जीवन १८७) ।
 एणित्तिय पु [इयन्, एतावन्] इतना (अभि-मन ८०) ।
 एणित्तिय पु [दे] दे = इ ।
 एणित्तिय पु [इतस्] यहा से (कुमा) ।
 एणित्तिय पु [इत्तहे] (कुमा) ।
 एणित्तिय पु [इत्तहे] (हे २, १३४, कुमा) ।
 एणित्तिय पु [इयन्, एतावन्] इतना (हे २, १५७) । 'मत्त', 'मेत्त' मात्र इतना ही (हे १, ८१) ।
 एणित्तिय पु [एत्तिअ = एतावत् (प्राकृत)] ऊपर देना (हे ४, ५०८, कुमा) ।
 एणित्तिय पु [दे] अधुना, इन समय (प्राकृत ८०) ।
 एणित्तिय पु [दे] (महा) ।

एत्तोअ अ [दे] यहा से लेकर (दे १, १४४) ।
 एत्थ अ [अत्र] यहा, यहा पर (उवा, गउड, चारु १०३) ।
 एत्थी देखो इत्थी (उप १०३१ टी) ।
 एत्थु (अप) देखो एत्थ (कुमा) ।
 एदपज्ज न [ऐदपय्ये] तात्वयं, भावार्थ (उप ८५६ टी) ।
 एदिहासिअ (शौ) वि [ऐतिहासिक] इति-हास-सबन्धी (प्राप) ।
 एदह देखो एत्तिअ (हे २, १५७, कुमा, काप्र ७७) ।
 एम (अप) अ [एव] इस तरह, ऐसा (षड्-पिण) ।
 एमइ (अप) अ [एवमेव] इसी तरह, ऐसा ही (षड्, वज्जा ६०) ।
 एमाइ } वि [एवमादि] इत्यादि, वगैरह
 एमाइय } (सुर ८, २६, उव) ।
 एमाण वि [दे] प्रवेश करता हुआ (दे १, १४४) ।
 एमिणिआ स्त्री [दे] वह स्त्री, जिसके शरीर को, किसी देश के रिवाज के अनुसार, सूत के धागे से माप कर उस धागे को फेंक दिया जाता है (दे १, १४५) ।
 एमेअ } अ [एवमेव] इसी तरह, इसी
 एमेव } प्रकार, 'ता भण कि करिणज्ज एमेअ वासरो ठाइ' (काप्र २६, हे १, २७१) ।
 एम्ब (अप) अ [एवम्] इस तरह, इस प्रकार (हे ४, ४१८) ।
 एम्बइ (अप) अ [एवमेव] इसी तरह, इस प्रकार (हे ४, ४२०) ।
 एम्बहि (अप) अ [इदानीम्] इस समय, अधुना (हे ४, ४२०) ।
 एय अक [एज्] १ कांपना झिलना । २ चनना । ३ गड (कण) । ४ कृत (ठा ७) । प्रया, क १७, अट्टजाणा (राज) ।
 एय अ [एज्] गति, गतन (भग २५, ४) ।
 एय अ [एज्] गति, गतन (भग १५, ५८) ।
 एय अ [एज्] गति, गतन, 'निरमण भाण' (सा ६) ।
 एय अ [एज्] गति, गतन, 'निरमण भाण' (सा ६) ।
 एय अ [एज्] गति, गतन, 'निरमण भाण' (सा ६) ।

एयाणिं देखो इयाणि (रभा) ।
 एयावंत वि [एतावत्] इतना (आचा) ।
 एरड पु [एरण्ड] १ वृक्ष-विशेष, रेंड, अडी, एरड का पेड (ठा ४, ४, साया १, १) ।
 २ वृक्ष-विशेष (परण १) । 'मिजिया स्त्री [मिजिका] एरण्ड-फल (भग ७, १) ।
 एरड वि [एरण्ड] एरण्ड-वृक्ष-सबन्धी (पत्रादि) (दे १, १२०) ।
 एरडइय } पु [दे] पागल कुत्ता, 'एरडए
 एरडय } साणे एरडइयसाणेत्ति हडक-यित' (वृह १) ।
 एरणयय न [ऐरणयवत्] १ क्षेत्र-विशेष (सम १२) । २ वि उस क्षेत्र में रहनेवाला (ठा २) ।
 एरवई स्त्री [ऐरावती, अजिरवती] नदी-विशेष (राज, कस) ।
 एरवय न [ऐरवत्] १ क्षेत्र-विशेष (सम १२, ठा २, ३) । २ पु पर्वत-विशेष (ठा १०) ।
 एरवय वि [ऐरवत्] ऐरवत् क्षेत्र का (सुज्ज १, ३) ।
 एरवय वि [ऐरवत्] ऐरवत् क्षेत्र का रहने-वाला (अणु) । 'कूड न [कूट] पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष (ठा १०) ।
 एराणी स्त्री [दे] १ इन्द्राणी व्रत का सेवन करनेवाली स्त्री (दे १, १४७) ।
 एरावई स्त्री [ऐरावती] नदी-विशेष (ठा ५, २, पि ४६५) ।
 एरावण पु [ऐरावण] १ इन्द्र का हाथी, जो कि इन्द्र के हस्ति-सैन्य का अधिपति देव है (ठा ५, १, प्रयो ७८) । 'वाहण पुं [वाहन] इन्द्रवाहन (उप ५३० टी) ।
 एरावय पु [ऐरावत्] १ हृद-विशेष (राज) । २ हृद-विशेष का आधिष्ठाता देव (जीव ३) । ३ छन्द-शास्त्रप्रसिद्ध पञ्चमला प्रस्तार में आदि के ह्रस्व और अन्त के दो गुरु अक्षरों का सकेत (पिण) । ४ लक्ष्मण वृक्ष । ५ सरल और लम्बा इन्द्र-वनुष । ६ ऐरावती नदी का समीपवर्ती देश । ७ इन्द्र का हाथी (२०८) ।
 एरिस वि [ईदृश] इस (आचा, कुमा, प्रासू २१) ।
 एरिसिअ (अप) ऊपर दे

कचुग देखो कचुअ (शोध ६७६, विसे २५२८) ।

कंचुगि देखो कंचुइ (सण) ।

कंचुलिआ ली [कञ्चुलिआ] कचली, चोली (कप्प) ।

कञ्चुली ली [दे] हार, कण्ठाभरण (भवि) ।

कञ्जिअ न [काञ्जिक] काञ्जिक (सुर ३, १३३, कप्प) ।

कट देखो कटग (पिंड २००) ।

कटअत वि [कण्टकायमान] ? कण्टक जैसा, कण्टक की तरह आचरता (से ६, २५) । २ पुलकित होता (अचु ५८) ।

कंटइअ वि [कण्टकित] ? कण्टकवाला (से १, ३२) । २ रोमाञ्चित, पुलकित (कुमा, पात्र) ।

कटइञ्जत देखो कटअत (गा ६७) ।

कंटइल पु [कण्टकिल] ? एक जात का वांस । २ वि कण्टको से ज्यात (सुप्र १, ५) ।

कटइल्ल देखो कटइअ (परह १, १, कुमा) ।

कटउच्चि वि [दे] कण्ट-प्रोत (दे २, १७) ।

कटकिल्ल देखो कंटइअ (दे २, ७५) ।

कटग } पु [कण्टक] ? काटा, कण्टक
कटय } (कंस, हे १, ३०) । २ रोमाञ्च,
पुलक (गा ६७) । ३ शत्रु, दुश्मन (गाया १,
१) । ४ वृद्धिक की पूँछ (वव ६) । ५ शल्य
(विपा १, ८) । ६ द्रु खोत्पादक वस्तु (उत्त
१) । ७ ज्योतिष-शाल-प्रसिद्ध एक कुयोग
(गण १६) । ८ बौद्धिया ली [दे] कण्टक-
शाला (आचा २, १, ५) ।

कटाली ली [दे] वनस्पति विशेष, कण्ट-
कारिका, भटकटैया (दे २, ४) ।

कटिय वि [कण्टिक] ? कण्टकवाला,
कण्टक-युक्त । २ वृक्ष-विशेष (उप १०३१
टी) ।

कटिया ली [कण्टिका] वनस्पति-विशेष (वह
१, आचू १) ।

कटी ली [दे] उपकण्ट, कण्टिका, पर्वत के
नजदीक की भूमि,

'एयाओ पल्हास्सणफलभरवधुरिया भूमिखण्डूरा ।
वटीओ निव्ववति व, अमदकरमंदशाओया'
(गजड) ।

कंटुल } [दे] देखो कंटोड = (दे) (पात्र,
कटोल } दे २, ७) ।

कठ पु [दे] ? सूकर, सूगर । २ मर्यादा,
सीमा (दे २, ५१) ।

कठ पु [कण्ठ] ? गला, घाटी (कुमा) । २
समीप, पास । ३ अञ्चल, 'कठे वत्याईण
णिवद्धगठिम्म' (दे २, १८) । ४ दरखलिअ
वि [दरखलिन] गद्गद (पात्र) । ५ सुर्य
न [सुरज] आभरण विशेष (गाया १, ५) ।
६ सुरवी ली [सुरवी] गले का एक आभरण
(श्रीप) । ७ मुही ली [मुसी] गले का एक
आभूषण (राज) । ८ सुत्त न [सूज] ?
सुरत-वन्ध-विशेष । २ गले का एक आभूषण
(श्रीप) ।

कठ वि [कण्ठय] ? कण्ठ से उत्पन्न । २
सरल, सुगम (निचू १५) ।

कठकुची ली [दे] ? वस्त्र वगैरह के अञ्चल
में बँधी हुई गाँठ । २ गले में लटकती हुई
लम्बी नाडी-ग्रन्थि (दे २, १८) ।

कठदीणार पु [दे] छिद्र, विवर (दे १, २५) ।

कठमल्ल न [दे] ? ठठरी, मुत-शिविका । २
यात्र-पात्र, वाहन (दे २, २०) ।

कंठमाल पुत्री [कण्ठमाल] रोग-विशेष
(कुप्र ४७१) ।

कठय पु [कण्ठय] स्वनाम-ख्यात एक चौर-
नायक (महा) ।

कठाकठि अ [कण्ठाकण्ठि] गले-गले में
ग्रहण कर (गाया १, २—पत्र ८८) ।

कठाल वि [कण्ठवत्] बड़ा गलावाला
(धर्मवि १०१) ।

कठिअ पु [दे] चपरासी, प्रतीहार (दे २,
१५) ।

कंठिआ ली [कण्ठिका] गले का एक
आभूषण (गा ७५) ।

कठीरअ देखो कठीरव (किरात १७) ।
कठीरव पु [कण्ठीरव] सिंह, शाहूँल (प्रयो
२१) ।

कड सक [कण्ड] ? ग्रीहि वगैरह का
छिलका अलग करना । २ खीचना । ३
खुजवाना । वक्र कडत (शोध ४६८, गा
६६३), कडित (गाया १, ७) ।

कड न [काण्ड] ? अगुल का असख्यातवा

भाग, 'कडति एत्थ भनइ अंगुलमाओ अर
खेज्जो' (पत्र २६० टी) ।

कड पुन [काण्ड] ? दरह लाठी । २
निन्दित समुदाय । ३ पानी, जल । ४ पर्व ।

५ वृक्ष का स्कन्ध । ६ वृक्ष की शाखा ।
७ वृक्ष का वह एक भाग, जहाँ से शाखाएँ

निकलती हैं । ८ ग्रन्थ का एक भाग । ९
गुच्छ, स्तवक । १० अश्व, घोड़ा । ११ प्रेत,
पितृ और देवता के यज्ञ का एक हिस्सा ।

१२ रीढ, छुट भाग की लम्बी हड्डी । १३
खुशामद । १४ स्लाघा, प्रशंसा । १५ गुणवत्ता,
प्रच्छन्नता । १६ एकान्त, निर्जन । १७ लुण

विशेष । १८ निर्जन पृथ्वी (हे १, ३०) । १९
अवसर, प्रस्ताव (गा ६, ३) । २० समूह

(गाया १, ८) । २१ बाण, शर (उप ६६६) ।
२२ देव-विमान-विशेष (राज) । २३ पर्वत वगैरह

का एक भाग (सम ६५) । २४ खण्ड, टुकड़ा,
अवयव (आचू १) । २५ च्छारिय पु [ल्लारिक]

? इस नाम का एक ग्राम । २ एक ग्राम
नायक (वव ७) । देखो कडग, कडय ।

कंड पु [दे] ? फेन, फीन । २ वि दुबल ।
३ विपन्न, विपत्ति-ग्रस्त (दे २, ५१) ।

कडइअ देखो कटइअ (गा ५५८) ।
कडइञ्जत देखो कटइञ्जत (गा ६७ अ) ।

कडग न [कण्डक] ? सख्यातीत समय-स्त्रान
समुदाय (पिंड ६६, १००) । २ विभाग,

पर्वत आदि का एक भाग (सुप्र १, ६, १०) ।
कडग पुन [काण्डक] देखो कड = काण्ड

(आचा, आवम) । २५ संयम श्रेणि विशेष
(वह ३) । २६ इस नाम का एक ग्राम

(आचू १) । देखो कडय ।
कंडण न [कण्डन] ग्रीहि वगैरह को साफ

करना, लुण प्रयकरण (आ २०) ।
कडपडचा ली [दे] यवनिका, परदा (दे २,
२५) ।

कडय पुन [काण्डक] देखो कड = काण्ड
तथा कडग । २७ वृक्ष विशेष, राससो का

चैत्य वृक्ष, 'तुलसी भूयाए भवे, रत्नसाए च
कडयो' (ठा ८) । २८ तानीज, गण्डा, मन्,

'बज्जति कंडयाइ, पडणीकीरित अगयाइ'
(सुर १६, ३२) ।

कडरीय पु [कण्डरीक] महापच राजा का
एक पुत्र, पुण्डरीक का छोटा भाई, जिसने

ऐ

ऐ अ [अयि] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
 १ सभावना । २ आमन्त्रण, संबोधन । ३
 प्रश्न । ४ अनुराग, प्रीति । ५ अनुनय, 'ऐ
 बीहिमि: ऐ सम्मत्तिप' (हे १, १६६) ।

॥ इम सिरिपाइअसहमहणवो ऐमाराइसहसकलणो
 अट्टमो तरंगो समत्तो ॥

ओ

ओ पु [ओ] स्वर वर्ण-विशेष (हे १, १,
 प्राप्ता) ।
 ओ देवो अव = अथ (हे १, १७२, प्राप्र,
 कुमा, पड्) ।
 ओ देतो अव (हे १, १७२, प्राप्र, कुमा,
 पड्) ।
 ओ देवो उव (हे १, १७२, कुमा) ।
 ओ देवो उअ = उत (हे १, १७३, कुमा) ।
 ओ अ [ओ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
 १ वितर्क । २ प्रकोप, विस्मय (प्राक् ७८) ।
 ओ अ [ओ] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
 १ सूचना, 'ओ अविणयतत्तिल्ले' । २ परचा-
 ताप, अनुताप, 'ओ न मए छाया इत्तिआप'
 (हे २, २०३, पड्, कुमा, प्राप्र) । ३
 सवाचन, आमन्त्रण (नाट—चैत ३४) ।
 ४ धारणा में प्रयुक्त किया जाता अव्यय
 (पचा १, विसे २०२४) ।
 ओअ न [दे] वार्ता, कथा कहानी (दे १,
 १४६) ।
 ओअअ वि [अपगत] अपस्त, 'ओअआअव-'
 (१ १६५) ।
 ओअर पु [दे] गजित, गर्जना (दे १, १५४) ।
 ओअर मव [आ + छिद] १ बलात्कार से
 एन लेना । २ नारा करना । ओअरइ (हे ४,
 १२५, पड्) ।
 ओअरगा श्री [आच्छेदना] १ नारा । २
 नवरत्नी धारणा (कुमा) ।

ओअक्ख सक [दृश्] देखना । ओअक्खइ
 (हे ४, १८१, पड्) ।
 ओअग्ग सक [वि + आप्] व्याप्त करना ।
 ओअग्गइ (हे ४, १४१) ।
 ओअग्गिअ वि [व्याप्त] विस्तृत, फैला
 हुआ (कुमा) ।
 ओअग्गिअ वि [दे] १ अभिभूत, परिभूत ।
 २ न केश वगैरह को एकत्रित करना (दे १,
 १७२) ।
 ओअग्घिअ } वि [दे] प्रात, सूँघा हुआ
 ओअधिअ } (दे १, १६२, पड्) ।
 ओअण्ण वि [अवनत] नमा हुआ, नीचे की
 तरफ मुड़ा हुआ (से ११, ११८) ।
 ओअत्त वि [अपवृत्त] श्रौंवा किया हुआ,
 उलटा किया हुआ, ओअत्ते कुम्भुहे जललव-
 कण्णियावि किं ठाइ ?' (गा ६५४) ।
 ओअत्तअ वि [अपवर्त्तितव्य] १ अपवर्त्तन-
 योग्य । २ श्यागने योग्य, छोड़ने लायक,
 'कुसुमन्मि व पन्वाअए भमरोअत्तअन्मि'
 (मे ३, ४८) ।
 ओअम्मअ वि [दे] अभिभूत, पराभूत
 (पड्) ।
 ओअर सक [अव + तृ] १ जन्म-ग्रहण
 करना । २ नीचे उतरना । ओअरइ (हे ४,
 ८५) । वक्क ओअरत्त (ओघ १६१, सुर
 १४, २१) । हेक्क ओअरिउ (प्राक्) । क
 ओअरियव्व (सुर १०, १११) ।

ओअरण न [उपकरण] साधन, सामग्री (गा
 ६८१) ।
 ओअरण न [अवतरण] उतरना, नीचे आना
 (गउड) ।
 ओअरय पुं [अपवरक] कमरा, कोठरी (सुपा
 ४१५) ।
 ओअरिअ वि [अवतीर्ण] उतरा हुआ (पाअ) ।
 ओअरिअ वि [ओदरिक] पेट-भरा, पेट, उदर
 भरने मात्र की चिन्ता करनेवाला (ओघ
 ११८ भा) ।
 ओअरिया ली [अपवरिका] कोठरी, छोटा
 कमरा (सुपा ४१५) ।
 ओअल्ल देवो ओअवट्ट = अथ + वृत् । ओअल्लइ
 (प्राक् ७०) ।
 ओअल्ल अक [अव + चल] चलना ।
 ओअल्लति (पि ११७, ४८८) । वक्क ओअ-
 ल्लत (पि ११७, ४८८) ।
 ओअल्ल पु [दे] १ अपचार, खराब आचरण,
 अहित आचरण (पड्, स ५२१) । २ कम्प,
 कापना (पड्, दे १, १६५) । ३ गौओ का
 बाडा । ४ वि पर्यस्त, प्रक्षिप्त । ५ लम्बमान,
 लटकता हुआ (दे १, १६५) । ६ जिसकी
 श्रालें निर्मूलित होती हो वह, 'मुच्छिण्णतो-
 अल्ला अक्कता णिअअमहिहरेहि पवगा' (से
 १३, ४३) ।
 ओअल्लअ वि [दे] विप्रलब्ध, प्रतारित (पड्) ।
 ओअव सक [साधय्] साधना, वश मे
 करना, जीतना, 'गच्छाहि ण भो देवाणु-

कन्दणया स्त्री [कन्दनता] मोटे स्वर से चिल्लाता (ठा ४, १)।

कदप्प पु [कन्दर्प] १ कामदेव, अमर (पात्र)। २ कामोद्दीपक हास्यादि, 'कदप्पे कुकडए' (पडि, णाया १, १)। ३ देव-विशेष (पत्र ७३)। ४ काम-सबन्धी कपाया ५ वि काम-युक्त, कामी (इह १)।

कदप्प वि [कान्दर्प] कान्दर्प सबन्धी (पत्र ७३)।

कदपि वि [कन्दर्पिन्] कामोद्दीपक, कन्दर्प का उत्तेजक (वव १)।

कदपिय पु [कान्दर्पिक] १ मजाल करने वाला भारुड वगैरह (श्रीप, भग)। २ भारुड-प्राय देवों की एक जाति (परह २, २)। ३ हास्य वगैरह भारुड कर्म से आजीविका चलावेवाला (परण २०)। ४ वि. काम-सबन्धी (इह १)।

कंदर न [कन्दर] १ रुद्र, विवर (णाया १, २)। २ ग्रहा, शुक्रा (उवा, प्रासू ७३)।

कंदरा स्त्री [कन्दरा] ग्रहा, शुक्रा (से ४, कदरी)। १६, राज)।

कदल पु [कन्दल] १ अक्षुर, प्ररोह (सुपा ४)। २ लता विशेष (णाया १, ६)।

कदल न [दे] कपाल (दे २, ४)।

कदलमा पु [कन्दलक] एक खुरवाला जानवर-विशेष (परण १)।

कदलित स्त्री [कन्दलित] अक्षुरित (कुमा, कदलित) पि ५६५)।

कदली स्त्री [कन्दली] १ लता विशेष (सुपा ६, पत्र ५३, ७६)। २ अक्षुर, प्ररोह, 'वारिहदुमकदलीवणदवो' (उप ७२८ टी)।

कदली स्त्री [कन्दली] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८, ६९)।

कदविय पु [कान्दविक] हलवाई, मिठाई बेचनेवाला (उप १११ टी)।

कदिंद पु [कन्देन्द्र, कन्दितेन्द्र] कन्दित-नामक देव-निकाय का इन्द्र (ठा २, ४—पत्र ८५)।

कदिय पु [कन्दित] १ वाणव्यन्तर देवों की एक जाति (परह १, ४, श्रीप)। २ न रोदन, आक्रन्द (उत्त २)।

कदिर वि [कान्दिन्] कांवेनेवाला (भवि)।

कदी स्त्री [दे] मूला, कन्द-विशेष (दे २, १)। कदु पुत्री [कन्दु] एक प्रकार का बरतन, जिसमें भारुड वगैरह पकाया जाता है, हांडा (विपा १, ३, सूष १, ५)।

कदुअ पु [कन्दुक] १ गेंद (पात्र, स्वप्न ३९, मै ६१)। २ वनस्पति-विशेष (परण १)।

कदुइअ पु [कान्दविक] हलवाई, मिठाई बेचनेवाला (दे २, ४१, ६६३)।

कदुक देखो कंदुअ (सूत्र २, ३, १६)।

कदुग देखो कदुअ (राज)।

कंदुट्ट न [दे] देखो कदोट्ट (पात्र, धर्मा ५, सरण)।

कदुउचय पुन [दे] कन्द-विशेष (सुत्र ३६, ६८)।

कदुय देखो कदुइअ (कुम ६८)।

कदोइय देखो कदुइअ (सुपा ३८५)।

कंदोट्ट न [दे] नील कमल (दे २, ६, प्राप्र, षड्. गा ६२२, उत्तर ११७, कप्पू, भवि)।

कध देखो खध = स्कन्ध (नाट, वज्जा ३६)।

कधरा स्त्री [कन्दरा] श्रीवा, गरदन (पात्र, सुर ४, १६६, गण ६)।

कंधार पु [दे] स्कन्ध, श्रीवा का पीछला भाग (उप पृ ८६)।

कप अक [कम्प] कापना, हिलना। कपद (हे १, ३०)। वक्र कपत, कपमाण (महा, कप्प)। कवक कपिजान (से ६, ३८, १३, ५६)। प्रयो, वक्र कपावित (सुपा ५६३)।

कप पु [कम्प] अस्थैय, चलन, हिलन (कुमा, आच)। कपड पु [दे] पथिक, मुसाफिर (दे २, ७)। कपण न [कम्पन] १ कम्प, हिलन (भवि)। २ रोग-विशेष। 'वाइअ वि [वातिक] कम्प वायु नामक रोगवाला (अनु ६)।

कपि वि [कम्पिन्] कापनेवाला (कप्पू)। कपिअ वि [कम्पित] कापा हुआ (कुमा)। कपिर वि [कम्पित] कापनेवाला (गा ६५६, सुपा १५८, आ २७)।

कपिल वि [कम्पवत्] कापनेवाला, अस्थिर, 'निबमकपिल परमयाहि कपिलनामपुर' (उप ६ टी)।

कपिलि पु [कम्पिल्य] १ यदुवशीय राजा अश्वकवृष्टि के एक पुत्र का नाम (अन्त ३)।

२ न पजाब देश का एक नगर (ठा १०, उप ६४८ टी)। 'पुर न [पुर] नगर विशेष (पत्र ८, १४३, ज्वा)।

कव वि [कन्न] १ कामुक, कामी। २ सुन्दर, मनोहर (पि २६५)।

कव देखो कवा।

कवर पु [दे] विज्ञान (दे २, १३)।

कवल पुन [कम्बल] १ कामरी, ऊनी कपडा (आचा, भग)। २ पु स्वनाम ध्यात एक बलीवद (राज)। ३ गौ के गले का चबडा, सास्ता, गलकबल, लहर (विपा १, २)।

कवा स्त्री [कम्बा] यष्टि, लकड़ी, 'दिटो तज्जणएण, निसूडिअ कवाएहि, वदो' (सुपा ३६६)।

कवि स्त्री [कम्बि, म्बी] १ रवी, कवी } कवई। २ लीला यष्टि, छंदी, शौख से हाथ में रखी जाती लकड़ी (उप पृ २३७)।

कविया स्त्री [कम्बिका] पुस्तक का पुट्ट, किताब का आवरण पुट्ट (राय ६६)।

कलु पु [कम्बु] १ शङ्ख (परह १, ४)। २ इस नाम का एक द्वीप (पत्र ४५, ३२)। ३ पर्वत-विशेष (पत्र ४५, ३२)। ४ न, एक देव-विमान (सम २२)। 'गवीन [ग्रीव] एक देव-विमान (सम २२)।

कवोय पु [कम्बोज] देश विशेष (पत्र २७, ७, स ८०)।

कवोय वि [कम्बोज] कम्बोज देश में उत्पन्न (स ८०)।

कमार पु ब [कदमीर] इस नाम का एक प्रसिद्ध देश (हे २, ६८, पड्)। 'जम्म न [जम्मन्] कुकुम, केसर (कुमा)। देखो कम्हार।

कभूर (अप) ऊपर देखो (पड्)। कस पु [कस] १ राजा उत्प्रेत का एक पुत्र, श्रीकृष्ण का नातुल (परह १, ४)। २ महान् ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ कासा, एक प्रकार की घातु (णाया १, ७—पत्र ११८)। 'णाम पु [नाभ] ग्रह विशेष (सुज २०, इक)। 'वण पु [वर्ण] ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। 'वणाम पु [वर्णाम] ग्रह-विशेष (ठा २, ३)। 'सहारण पु [सहारण] कृष्ण, विष्णु (पिग)।

ओत्थरिअ वि [अवस्तृत] १ विद्याया हुआ ।

२ व्याप्त (से ७, ४७) ।

ओत्थरिअ वि [दे] १ आक्रान्त । २ जो आक्रमण करता हो वह (दे १, १६६) ।

ओत्थल्ल देखो उत्थल्ल = उत् + स्तु । ओत्थ-ल्ल (प्राक् ७५) ।

ओत्थल्लपत्थल्ल देखो उत्थल्लपत्थल्ल (दे १, १२२) ।

ओत्थाडिय वि [अवस्तृत] विद्याया हुआ (भवि) ।

ओत्थार सक [अव + स्तारय्] आच्छादित करना । कर्म ओत्थारिज्जति (स ६६८) ।

ओदड्ग देखो ओदइय (अरु १३६) ।

ओदइय पुन [ओदयिक] १ उदय, कर्म-विपाक (भग ७, १४, विसे २१७४) । २ वि-पदय निपक्ष (विसे २१७४, सूत्र १, १३) ।

३ पुं कर्मादय रूप भाव, 'कम्मोदयसहावो सधोअणुहो सुहो य ओदइओ' (विसे ३४६४) ।

४ वि उदय होने पर होनेवाला (विसे २१७४) ।

ओदअ न [ओदात्य] उदात्तता, श्रेष्ठता (प्राक्) ।

ओदज्ज न [ओदार्य] उदारता (प्राक्) ।

ओदण न [ओदन] भात, रोधा हुआ चावल (पएह २, ५, श्लो ७१४, चाव १) ।

ओदरिअ वि [ओदरिक] पेट-भरा, पेट भरने के लिए ही जो साधु हुआ हा वह (निचू १) ।

ओदहण न [अवदहन] तप्त किए हुए लोहे के लोग वगैरह से दागना (राज) ।

ओदरिय न [ओदार्य] उदारता (प्राक्) ।

ओद वि [आट्टे] नीला (प्राक् २०) ।

ओदपिअ वि [दे] १ आक्रान्त । २ नष्ट (२१, १७१) ।

ओदम नक [अव + ध्वस्] १ गिराना । २ हटाना । ३ हराना । कवक्क 'परखाईहिं प्रोत्तरता अएणवत्थिएहि अणोडसिज्ज-माणा विररति' (श्लोप) ।

ओदय नक [अव + धाव्] पीछे दोडना । घोघार (महा) ।

ओदुग नेते अउणुण । कर्म ओदुव्वरति (पि ५३६) । नट ओदुगिअ (पि ५६१) ।

ओधूस वि [अउधत्त] सम्पत् (नाट) ।

ओधूसरिअ वि [अवधूसरित] धूसर रंग-वाला, हलका पीला रंगवाला (से १०, २१) ।

ओनडिय वि [अवनाटित] अरगणित, तिर-स्कृत, 'चवुओनडियअरुणपह' (सम्पत् २१४) ।

ओनियट्ट वि [अउनिवृत्त] देखो ओणि-अत्त = अउनिवृत्त (कप्प) ।

ओपल्ल वि [दे] अउदीर्ण, कुरिठव, 'तते ए से तेतलिपुत्ते नीलुपल्ल जाव अंसि खवे ओहररति, तत्थवि य से धारा ओपल्ला' (खाया १, १४) ।

ओप्प वि [दे] छुट, ओप दिया हुआ (षड्) ।

ओप्प सक [अरपय्] अरपण करना । ओप्पेइ (हे १, ६३) ।

ओप्पा व्ही [दे] शाण आदि पर मणि वगैरह का घर्षण करना (दे १, १४८) ।

ओप्पाइय वि [ओत्पातिक] उत्पात-सम्बन्धी (श्लोप) ।

ओप्पिअ वि [अरपित] समर्पित (हे १, ६३) ।

ओप्पिअ वि [दे] शाण पर घिसा हुआ, 'एणवमउडोपिअपययह' (दे १, १४८) ।

ओप्पील पु [दे] समूह, जत्या (पाअ) ।

ओप्पुसिअ } देखो उप्पुसिअ (गउड, पि
ओप्पुसिअ } ४८६) ।

ओवद्ध वि [अववद्ध] १ बँधा हुआ । २ अउवसन्न (वव १) ।

ओवुउअ सक [अव + वुध्] जानना । वक्क ओवुउअमाग (आचा) ।

ओउभालण देखो उउभालण (दे १, १०३) ।

ओभग्ग वि [अवभग्ग] भग्ग, नट (से ३, ६३, १०, २६) ।

ओभावणा व्ही [अपभ्राजना] लोक-निन्दा, अपकीर्ति (राज) ।

ओभास अक [अव + भास्] प्रकाशना, चमकना । वक्क ओभासमाण (भग ११, ६) । प्रयो ओभामेड (भग) ओभासति, ओभा-सति (सुज्ज १६) क्क ओभासमाण (सूत्र १, १४) ।

ओभास नक [अउ + भाप्] याचना करना, मागना । कवक्क ओभासिज्जमाण (निचू २) ।

ओभास पु [अवभास] १ प्रकाश (श्लोप) । २ महाउह-विशेष (ठा २, ३) ।

ओभासण न [अवभासन] १ प्रकाशन, उत्रोतन (भग ८, ८) । २ आविर्भाव । ३ प्राप्ति (सूत्र १, १२) ।

ओभासण न [अवभाषण] याचना, प्रार्थना (वव ८) ।

ओभासिय वि [अवभाषित] १ याचित, प्रार्थित (वव ६) । २ न याचना, प्रार्थना (वह १) ।

ओभुग्ग वि [अवभुग्ग] वक्क, वांका, (खाया १, ८—पत्र १३३) ।

ओभेडिय वि [अवमुत्त] छुड़ाया हुआ, रहित किया हुआ, 'एणवि कडिडअणलक्ख पिअ सूई-ओभोडिओ नियकुक्कुडो' (महा) ।

ओम वि [अवम] असार, निस्सार (आचा २, ५, २, १) ।

ओम वि [अवम] १ कम, न्यून हीन (आचा) । २ लघु छोट (श्लो २२३ भा) ।

३ न, दुर्भिक्ष, अकाल (श्लो १३ भा) ।

ओहट्ट वि [ओहट्ट] ऊनोदर, जिसने कम खाया हो वह (ठा ४) ।

ओचेल्ल वि [ओचेल्ल] जीर्ण और मलिन वस्त्र धारण करनेवाला (उत्त १२, आचा) ।

ओरत्त पुं [ओरत्त] १ दिन-क्षय, ज्योतिष की गिनती के अनुसार जिस तिथि का क्षय होता है वह (ठा ६) । २ अहोरात्र, रात-दिन (श्लो २८२) ।

ओमइल्ल वि [अउमल्लिन] मलिन, मैला (से २, २५) ।

ओमथ [दे] देखो ओमत्थ (पाअ) ।

ओमथिय वि [दे] अघोमुख किया हुआ, नमाया हुआ (खाया १, १) ।

ओमथिय वि [अवमस्तिअ] शीर्षासन से स्थित, नीचे मस्तक और ऊँचे पैर रखकर स्थित (एहि १२८ टी) ।

ओमस वि [दे] अउवद्ध, अउगत्त (षड्) ।

ओमज्जण न [अवमज्जन] स्नान-क्रिया (उप ६४८ टी) ।

ओमज्जायण पुं [अवमज्जायन] ऋवि-विशेष (ज ७, इक) ।

ओमज्जिअ वि [अवमज्जिअ] जिसको स्पर्श कराया गया हो वह स्थित (स ५६७) ।

ओमट्ट वि [अउमट्ट] सट्ट, छुड़ा हुआ (से ५, २१) ।

कञ्च न [दे. कृत्य] कार्य, काम (दे २, २, (षड्)।

कञ्च (पै) देखो कज्ज (प्राप्र)।

कञ्च न [काञ्च] काञ्च, शीशा, 'कञ्चमारिणक च समं आहरणे पञ्जीमदि' (कप्पू)।

कञ्चंत वि [कृत्यमान] पीडित किया जाता (सूत्र १, २, १)।

कञ्चरा स्त्री [दे] १ कचरा, कच्चा खरबूजा। २ कचरा को सूखाकर, तलकर और मसाला डालकर बनाया हुआ खाद्य-विशेष, एक प्रकार का आचार, गुजराती में जिसको 'काचरी' कहते हैं, 'पुरो कञ्चरा पप्पडा दिण्णमेया' (भवि)।

कञ्चवार पु [दे] कतवार, कूड़ा (सूक्त ४४)।

कञ्चाइणी स्त्री [कात्यायनी] देवी-विशेष, चण्डी (स ४३७)।

कञ्चायण पु [कात्यायन] १ स्वनाम-ख्यात ऋषि-विशेष (सुज १०)। १ न. कौशिक गोत्र की शाखा-रूप एक गोत्र। २ पुंस्त्री उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

कञ्चायणी स्त्री [कात्यायनी] पार्वती, गौरी (पात्र)।

कञ्चित् अ [कञ्चित्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्रश्न। २ भङ्ग। ३ अभिलाप। ४ हर्ष (पि २७१, हे २, २१७, २१८)।

कञ्चु (अप) ऊपर देखो (हे ४, ३२६)।

कञ्चूर पु [कञ्चूर] वनस्पति-विशेष, कन्धूर, काली हलदी (श्रा २०)।

कञ्चोल पु [कञ्चोल] पान-विशेष, कञ्चोलय व्याला (पञ्चम १०२, १२०, भवि सुपा २०१)।

कञ्छ पु [कञ्छ] १ काँख, कखरी। २ वन जगल (भग ३, ६)। २ तुण, घास। ४ शुष्क तुण। ५ वल्ली, लता। ६ शुष्क-काष्ठो वाला जगल। ७ राजा वगैरह का जनान-खाना। ८ हाथी को बाँधने की डोर। ९ पार्वं बाजू। १० ग्रह-भ्रमण। ११ कक्षा, श्रेणी। १२ द्वार, दरवाजा। १३ वनस्पति-विशेष, शूल। १४ विभीतक वृक्ष। १५ घर की भीत। १६ स्पर्धा का स्थान। १७ जल-प्राय देश (हे २, १७)।

कञ्छ पु व. [कञ्छ] १ स्वनाम-ख्यात देश, जो आजकल भी 'कञ्छ' नाम से प्रसिद्ध है (पञ्चम ६८, ६४, दे २, १ टी)। २ जलप्राय देश, जल बहुल देश (शाया १, १—पत्र, ३३, कुमा)। ३ कञ्छा, लँगोट (सुर २, १६)। ४ इधु वगैरह की वाटिका (कुमा, आचा २, ३)। ५ महाविदेह वर्ष में स्थित एक विजय-प्रदेश (ठा २, ३)। ६ तट, किनारा, 'गोलाण्डैए कञ्छे, चक्खतो राइआइ पत्ताइ' (गा १७१)। ७ नदी के जल से वेष्टित वन (भग)। ८ भगवान् ऋषभदेव का एक पुत्र (आवम)। ९ कञ्छ-विजय का एक राजा। १० कञ्छ-विजय का अधिष्ठायाक देव (ज ४)। ११ पारवर्ती प्रदेश। १२ राजा वगैरह के उद्यान के समीप का प्रदेश (उप १८६ टी)। १३ छन्द-विशेष, दोषक छन्द का एक भेद (पिग)। १४ कूड न [कूट] १ माल्यवन्तनामक वक्षस्कार पर्वत का एक शिखर। २ कञ्छ-विजय के विभाजक वैताढ्य पर्वत के दक्षिणोत्तर पारवर्ती दो शिखर (ठा ६)। ३ चित्रकूट पर्वत का एक शिखर (ज ४)। ४ हिण्ड पु [धिप] कञ्छ देश का राजा (भवि)। ५ हिण्ड पु [धिपति] कञ्छ देश का राजा (भवि)।

कञ्छ पुंन [कञ्छ] १ नदी के पास की नीची जमीन। २ मूला आदि की बाढी (आचा २, ३, ३, १)।

कञ्छकर पु [दे] काञ्छिआ, सञ्जी वेचने-वाला। (लोक प्र० ४६४, २, ३१—सर्ग)।

कञ्छगावई स्त्री [कञ्छकावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय-प्रदेश (ठा २, ३)।

कञ्छट्टी स्त्री [दे] कञ्छौटी, लँगोटी, कछनी (रमा—टि)।

कञ्छभ पु [कञ्छप] १ कूर्म, कछुआ (पण्ड १, १, शाया १, १) २ राहु, ग्रह-विशेष (भग १२, ६)। ३ रिंमिय न [रिंजित] गुरु-वन्दन का एक दोष, कछुए की तरह चलते हुए वन्दन करना (वृह ३, शुभा)।

कञ्छभाणिया स्त्री [दे] जल में होनेवाली वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८)।

कञ्छभी स्त्री [कञ्छपी] १ कञ्छप-स्त्री, कूर्मा। २ वाद्य विशेष (पण्ड २, ५)। ३

नारद की वीणा (शाया १, १७)। ४ पुस्तक-विशेष (ठा ४, २)।

कञ्छर पु [दे] पङ्क, कीच, कर्द (दे २, २)। कञ्छरी स्त्री [कञ्छरी] गुच्छ विशेष (पण्ड १—पत्र ३२)।

कञ्छव (अप) पुं [कञ्छ] स्वनाम-प्रसिद्ध देश-विशेष (भवि)।

कञ्छव देखो कञ्छभ (पञ्चम ३४, ३३, दे १, १६७ (गउड)।

कञ्छवी देखो कञ्छभी (वृह ३)।

कञ्छह देखो कञ्छभ (पात्र)।

कञ्छा स्त्री [कक्षा] १ विभाग, अश (पञ्चम १६, ७०)। २ उरो वन्धन, हाथी के पेट पर बाँधने की रज्जु, 'उपीलियकञ्छे' (विपा १, २—पत्र २३, औप)। ३ काँख, बगल (भग ३, ६, प्रामा)। ४ श्रेणी, पक्ति, 'चमरस्स ए अशुरिदस्स अशुरकुमारएणो दुमस्स पायत्ताणियाहिणस्स सत्त कञ्छाओ पणएत्ताओ' (ठा ७)। ५ कमर पर बाँधने का बन्ध (गा ६८४)। ६ जनानखाना, अन्त पुर (ठा ७)। ७ सशय-कोटि। ८ स्पर्धा-स्थान। ९ घर की भीत। १० प्रकोष्ठ (हे २, १७)।

कञ्छा स्त्री [कञ्छा] कटि-मेखला, कमर का आभूषण (पात्र)। १ वई स्त्री [वती] देखो कञ्छगावई (ज ४)। २ वईकूड न [वती कूट] महाविदेह वर्ष में स्थित ब्रह्मकूट पर्वत का एक शिखर (इक)।

कञ्छादन्ध पु [दे कञ्छादर्भ] रोग विशेष (सिरि ११७)।

कञ्छु स्त्री [कञ्छु] १ खुजली, खान, रोग विशेष (प्रासू २८)। २ खान को उत्पन्न करनेवाली श्लेष्मि, कपिकञ्छु (पण्ड २, ५)। ३ ल, छ वि [मत्] खान रोग-वाला (राज, विपा, १, ७)।

कञ्छुट्टिया स्त्री [दे कञ्छपटिका] कञ्छौटी, लँगोटी (रमा)।

कञ्छुरिअ वि [दे] १ इपित, जिसकी ईर्ष्या की जाय वह। २ न ईर्ष्या (दे २, १६)।

कञ्छुरिअ वि [कञ्छुरित] व्याप्त, खचित (कुम्मा ६ टी)।

कञ्छुरी स्त्री [दे] कपिकञ्छु, केवाँच (दे २, ११)।

ओरत्त वि [दे] १ गर्विष्ठ, अभिमानी । २ कुसुम्भ से रक्त । ३ विदारित, काटा हुआ (दे १, १६५. पात्र) ।
 ओरद्ध देखो अवरद्ध = अपरद्ध (प्राद्ध ५०) ।
 ओरम अक [उप + रम्] निवृत्त होना । ओरम (सूत्र १, २, १, १०) ।
 ओरही स्त्री [दे] लम्बा और मधुर आवाज (दे १, १५४. पात्र) ।
 ओरस मक [अव + तृ] नीचे उतरना । ओरसइ (हे ४, ८५) ।
 ओरस वि [उपरस] स्नेह-युक्त, अनुरागी (ठा १०) ।
 ओरस वि [औरस] १ स्तोत्रादित पुत्र, स्व-पुत्र (ठा १०) । २ औरस्य, हृदयोत्पन्न (जीव ३) ।
 ओरसिअ वि [अवतीर्ण] उतरा हुआ (कुमा) ।
 ओरस्स वि [औरस्य] हृदयोत्पन्न, ग्राम्य-न्तरिक (प्राह) ।
 ओराल देखो उराल = उदार (ठा ४, १० जीव १) ।
 ओराल देखो उराल (दे) (चद १) ।
 ओराल न [औदार] नीचे देखो (विसे ६३१) ।
 ओरालिय न [औदारिक] १ शरीर विशेष, मनुष्य और पशुओं का शरीर (ओप) । २ वि. शोभायमान, शोभा वाला (पात्र) । ३ औदारिक शरीर वाला (विसे ३७५) । ४ नाम न [नामन्] औदारिक शरीर का हेतुभूत कर्म (कम्म) ।
 ओरालिय वि [दे] १ ध्याप्त । २ उपलित, 'दिष्टोचिहोरालियसिरो' (सुख १, १३) ।
 ओरालिय वि [दे] १ पोद्धा हुआ, 'मुहि परम्पु देवि पुणु ओरालिउमुहकमलु' (मवि) । २ देहाया हुआ, प्रसारित, 'दसदिसि वहकयवु ओरालिओ' (मवि) ।
 ओराली देनो ओरही (मुर ११, ८६) ।
 ओरिन्निअ न [अपरिद्धित] महिप की आवाज, 'कप्पर मत्तिगोरिन्निअ कप्पइ डुइडुइइहवन्ड-मन्निअ' (पउम ६४, ४३) ।
 ओरिअ पु [दे] लम्बा बाल, दीर्घ बाल (दे १, १५५) ।

ओरी [दे] समीप (आख्या० कोष. पत्र—८५ गा० १५) ।
 ओरुंज न [दे] क्रीडा-विशेष (दे १, १५६) ।
 ओरुभिय वि [उपरुद्ध] आवृत्त, आच्छादित (गा ६१४) ।
 ओरुण वि [अवरुदित] रोया हुआ (गा ५३८) ।
 ओरुद्ध वि [अवरुद्ध] रुका हुआ, बन्द किया हुआ (गा ८००) ।
 ओरुभ सक [अव + रुह] उतरना । वक्क ओरुभमाण (कस) ।
 ओरुम्मा अक [उद् + वा] सूखना, सूख जाना । ओरुम्माइ (हे ४, ११) ।
 ओरुह देखो ओरुभ । वक्क ओरुहमाण (सथा ६३. कस) ।
 ओरुहण न [अवरोहण] नीचे उतरना (पउम २६, ५५, विसे १२०८) ।
 ओरुहण न [अवरोहण] नीचे उतारना, अवतारण (पव १५५) ।
 ओरोध देखो ओरोह = अवरोध (विपा १, ६) ।
 ओरोह देखो ओरुभ । वक्क ओरोहमाण (कस. ठा ५) ।
 ओरोह पु [अवरोध] १ अन्त पुर, जनानखाना (ओप) । २ अन्त पुर की स्त्री (सुर १, १४३) । ३ नगर के दरवाजा का अवान्तर द्वार (याया १, १, ओप) । ४ सघात, समूह (राज) ।
 ओलअ पु [दे] १ श्येन पक्षी, बाज पक्षी । २ अपलाप, निह्व (दे १, १६०) ।
 ओलअपी स्त्री [दे] नवोढा, दुलहिन (दे १, १६०) ।
 ओलडअ वि [दे अवलगित] १ शरीर मे मटा हुआ, परिहित (दे १ १६२. पात्र) । २ लगा हुआ (मे १, १६२) ।
 ओलइणी स्त्री [दे] प्रिया, स्त्री (दे १, १६०) ।
 ओलड सक [उत् + लङ्] जलघन करना । ओलडेंति (याया १, १—पत्र ६१) ।
 ओलअ देखो अवलय = अव + लाम् । सक ओलविऊण (महा) ।
 ओलव पु [अवलम्ब] नीचे लटकना (ओप. स्वप्न ७३) ।

ओलंबण न [अवलम्बन] सहारा, आश्रय । 'दीव पु [दीप] शृङ्खला-बद्ध दीपक (राज) ।
 ओलविय वि [अवलम्बित] आश्रित, जिसका सहारा लिया गया हो वह (निचु १) । २ लटकाया हुआ (ओप) ।
 ओलविय वि [उल्लवित] लटकाया हुआ (सूत्र २, २ ओप) ।
 ओलभ पु [उपालम्भ] उलाहना, 'अपोलभ-णिमित्त पढमस्स णायज्झयणस्स अयमट्ठे परणत्ते त्ति बेमि' (याया १, १) ।
 ओलक्खिअ वि [उपलक्षित] पहिचाना हुआ (पउम १३, ४२, सुपा २५४) ।
 ओलगि (अप) देखो ओलगि (सिरि ५२४) ।
 ओलग्ग सक [अव + लग्] १ पीछे लगना । २ सेवा करना । ओलग्गति (पि ४८८) । हेक्क ओलग्गिअ (सुपा २३४. महा) । प्रयो, सक ओलग्गविचि (सण) ।
 ओलग्ग वि [अवरुण] १ ग्लान, बीमार । २ दुर्बल, निर्बल (याया १, १—पत्र २८ टी. विपा १, २) ।
 ओलग्ग वि [अवलग्न] पीछे लगा हुआ, अनुलग्न (महा) ।
 ओलग्ग [दे] देखो ओलग्ग (दे १, १६४) ।
 ओलग्गा स्त्री [दे] सेवा, भक्ति, चाकरी, 'करेअ देवो पसाय मम ओलग्गाए' (स ६ ३६), 'ओलग्गाए वेत्ति जपिअ निग्गओ खुजो' (धम्म ८ टी) ।
 ओलग्गि वि [अवलगिन्] सेवा करने-वाला । स्त्री-णी (रंभा) ।
 ओलग्गिअ वि [अवलग्न] सेवित (वज्जा ३२) ।
 ओलावअ पु [दे] श्येन, बाज पक्षी (दे १, १६०. स २३३) ।
 ओलि देखो ओली = गाली (हे १, ८३) ।
 ओलिअ पु [अलिन्दक] बाहर के दरवाजे का प्रकोष्ठ (गा २५४) ।
 ओलिप सक [दे] खोलना । कवक्क 'ओलिप- [अलिप] माणे वि तहा तहेव काया कवाडम्मिवासियव्वा' (पिड ३५४) ।
 ओलिप सक [अव + लिप्] लीपना, लेप लगाना । वक्क ओलिपमाण (राज) ।

कट्टिअ पु [दे] चपरासी, प्रतीहार (दे २, १५)।

कट्टिअ वि [वापित] काठ से सस्कृत भीत बगैरह (आचा २, २)।

कट्टिण देखो कट्टिण (नाट—मालती ५६)।

कट्टेअ वि [काट्टेय] देखो कट्टिअ—काष्ठित (आचा २, २, १, ६)।

कट्टोल देखो कट्ट = कट्ट (पिंड १२)।

कड वि [दे] १ क्षीण, दुर्बल। २ मृत, निनष्ट (दे २, ५१)।

कड पु [कट] १ गण्ड-स्थल, गाल (राया १, १ पत्र ६५)। २ तृण, घास। ३ चटाई, आस्तरण-विशेष (ठा ४, ४ पत्र २७१)। ४ लकड़ी, यष्टि, 'तेसि च जुद्ध लयालिदुठ-कडपासाणदतनिवाएहि' (वसु)। ५ वंश, बास (विपा १, ६, ठा ४, ४)। ६ तृण-विशेष (ठा ४, ४)। ७ छिला हुआ काष्ठ (आचा २, २, १)। ८ च्छेज्ज न [च्छेज्ज] कला विशेष (ओप, ज २)। ९ तड न [तट] १ कटक का एक भाग। २ गण्ड तल (राया १, १)। ३ पूयणा स्त्री [पूतना] व्यन्तरी-विशेष (विसे २५४६)।

कड वि [कृत] १ किया हुआ, बनाया हुआ, रचित (भग, परह २, ४, विपा १, १, कप्प, सुपा २६)। २ पुन युग विशेष, सत्ययुग, (ठा ४, ३)। ३ चार की संख्या (सुभ १, २)। ४ जुग न [युग] सत्य-युग, उन्नति का समय, आदि युग, १७२०००० वर्षों का यह युग होता है (ठा ४, ३)। ५ जुम्म पुं [युग्म] सम राशि-विशेष, चार से भाग देने पर जिसमें कुछ भी शेष न बचे ऐसी राशि (ठा ४, ३)। ६ जुम्मकडजुम्म पु [युग्मकृतयुग्म] राशि विशेष (भग ३४, १)। ७ जुम्मकळिओय [युग्मकल्योज] राशि-विशेष (भग ३४, १)। ८ जम्मतेओग पु [युग्मत्र्योज] राशि-विशेष (भग ३४, १)। ९ जुम्मदावरजुम्म पु [जुग्मद्वार-युग्म] राशि-विशेष (भग ३४, १)। १० जोगि वि [जोगिन्] १ कृत-क्रिय (निचू १)। २ गीतार्थ, ज्ञानी (ओप १३४ भा)। ३ तपस्वी (निचू १)। ४ वाइ पु [वादिन्] छष्टि को नैसर्गिक न मानकर किसी की बनाई

हुई माननेवाला, जगत्सृष्टिवादी (सुभ १, १, १)। ५ इ पु [दि] देखो जोगि (भग, राया १, १—पत्र ७४)। देखो कय = कृत।

कडअल्ल पु [दे] दौवारिक, प्रतीहार (दे २, १५)।

कडअली स्त्री [दे] कण्ठ, गला (दे २, १५)।

कडइअ पु [दे] स्थपति, बढई (दे २, २२)।

कडइअ वि [कटकित] वलय की तरह स्थित (से १२, ४१)।

कडइल्ल पुं [दे] दौवारिक, प्रतीहार (दे २, १५)।

कडगर न [कडङ्गर] तुप, छिलका, भूसा (सुपा १२६)।

कडंत न [दे] मूली, कन्द विशेष। २ मुसल (दे २, ५६)।

कडतर न [दे] पुराना सूर्प आदि उपकरण (दे २, १६)।

कडतरिअ वि [दे] दारित, विदारित, विना-शित (दे २, २०)।

कडव पु [कडम्ब] वाद्य विशेष (विसे ७८ टी)।

कडवा पुष्पी [कडम्बा] वाद्य-विशेष (राय ४६)।

कडभुअ न [दे] १ कुम्भग्रीव नामक पात्र-विशेष। घडे का कण्ठ-भाग (दे २, २०)।

कडक देखो कडग (नाट—रत्ना ५८)।

कडकडा स्त्री [कडकडा] अनुकरण शब्द-विशेष, कड कड आवाज (स २५७, पि ५५८, नाट—मालती ५६)।

कडकडिअ वि [कडकडित] जिसने कड कड आवाज किया हो वह, जोर (सुर ३, १६३)।

कडकडिर वि [कडकडायिट] कड-कड आवाज करनेवाला (सण)।

कडकिय न [कडकित] कडकड आवाज (सिरि ६६२)।

कडकख पु [कटाक्ष] कटाक्ष, तिरछी चितवन, भाव-युक्त दृष्टि, आँख का सकेत (पाभ, सुर १, ४३, सुपा ६)।

कडकख सक [कटाक्षय] कटाक्ष करना। कडकखइ (भवि)। संक कडकखेवि (भवि)।

कडकखण न [कटाक्षण] कटाक्ष करना (भवि)।

कडकखिअ वि [कटाक्षित] १ जिसपर कटाक्ष किया गया हो वह (रभा)। २ न कटाक्ष (भवि)।

कडग पुन [कटक] १ कडा, वलय, हाथ का आभूषण-विशेष (राया १, १)। २ यवनिका, परदा, 'अलस्त समगमण होही कडतरण त सव्व। निसुयमुवक्काएण' (उप १६६ टी)। ३ पर्वत का मूल भाग। ४ पर्वत का मध्य भाग। ५ पर्वत की समभूमि। ६ पर्वत का एक भाग, 'गिरिकदरकडगविसमदुरगेसु' (पव ८२, परह १, ३, राया १, ४, १८)। ७ शिविर, सेना रहने का स्थान (बृह २)। ८ पु. देश विशेष (राया १, १—पत्र ३३)। देखो कडय।

कडच्छु स्त्री [दे] कर्छी, चमची, डोई (दे २, ७)।

कडण न [कदन] १ मार डालना, हिसा करना। (कुमा)। २ नाश करना। ३ मर्दन। ४ पाप। ५ युद्ध। ६ विह्वलता, आकुलता (हे १, २१७)।

कडण न [कटन] १ घर की छत। २ घर पर छत डालना (गच्छ १)।

कडण न [कटन] चटाई आदि से घर का संस्कार, चटाई आदि से घर के पार्श्व भागों का किया जाता आच्छादन (आचा २, २, ३, १ टी, पत्र १३३)।

कडणा स्त्री [कटना] घर का अवयव विशेष (भग ८, ६)।

कडणी स्त्री [कटनी] मेखला, 'सुरगिरिकड रिणपरिद्वियचदाइचाएण सिरिमणुहरति' (सुपा ६१५)।

कडतळा स्त्री [दे] लोहे का एक प्रकार का हथियार, जो एक धारवाला और बक्र होता है (दे २, १६)।

कडतरिअ वि [दे] देखो कडतरिअ (भवि)। कडइरिअ वि [दे] १ छिन्न, काटा हुआ। २ न छिद्रता (पड)।

कडप्प पु [दे कटप्र] १ समूह, निकर, कलाप (दे २, १३, पड, गड, सुपा ६२, भवि, विक्र ६५)। २ वस्त्र का एक भाग (दे २, १३)।

ओवट्टण न [अपवर्त्तन] ह्रास, कमी (थावक २१६)।

ओवट्टणा स्त्री [अपवर्त्तना] भागाकार, भाग-हरण (राज)।

ओवट्टिअ न [दे] चाट्ट, खुशामद (दे १, १६२)।

ओवट्ट वि [अवट्ट] वरसा हुआ, जिसने वृष्टि की हो वह (से ६, ३४)।

ओवट्ट पु [दे अववर्ष] १ वृष्टि, वारिश् (से ६, २५)।

२ मेघ-जल का सिञ्चन (दे १, १५२)।

ओवट्टिअ वि [औपस्थितिक] उपस्थिति के योग्य, नीकर (प्रयौ ११)।

ओवड अक [अव + पत्] गिरना, नीचे पडना। वक्क ओवडत (से १३, २८)।

ओवडण न [अवपतन] १ अथ पात। २ भम्पा पात (से २, ३२)।

ओवड्ड वि [उपार्ध] आगे के करीव।

ओमोयरिया स्त्री [ओमोदरिका] वारह बचल का ही आहार करना, तप-विशेष (भग-५, १)।

ओवड्डि वि [अपवृद्धि] ह्रास (निचू २०)।

ओवड्डा स्त्री [दे] ओदनी का एक भाग (दे १, १५१)।

ओवण न [उपवन] बगीचा, आराम (कुमा)।

ओवणिहिय पु [औपनिहित, औपनिधिक] मिठाकर विशेष, समीपस्य भिक्षा को लेनेवाला गाधु (ठा ५, श्रोप)।

ओवणिहिया स्त्री [औपनिधिकी] आनुपूर्वी-विशेष, अनुक्रम-विशेष (श्रोप)।

ओवत्त मक [अप + वर्त्तय्] १ उलटा करना। २ फिराना, घुमाना। ३ फेंकना।

४ ओवत्तिय (दा ५)। ५ ओवत्तेअव्व (१ १०, ५०)।

ओवत्त वि [अपवृत्त] फिराया हुआ (से ६, ६१)।

ओवत्तिय वि [अपवत्तिन] १ घुमाया हुआ। २ चिन्न (गाया १, १—पत्र ५०)।

ओवत्तिय वि [औपस्थानिक] नभा वा नयं रत्तेपाना नीरर। स्तो वा (भग ११, ११)।

ओवम देखो ओवम्म, 'इदियपच्चक्ख पिय अणुमाणा ओवम च मइलाण' (जीवस १४२)।

ओवमिय वि [औपमिक] उपमा-सम्बन्धी (अणु)।

ओवमिय } न [औपम्य] १ उपमा (ठा ८, ओवम्म } अणु)। २ उपमान, प्रमाण (सूत्र १, १०)।

ओवय सक [अव + पत्] १ नीचे उतरना। २ आ पडना। वक्क ओयवत, ओवयमाण कप्प, स ३७०, पि ३६२, गाया १, १६)।

ओवयण न [दे अवपदन] प्रोह्लणक, चुमना (गाया १, १—पत्र ३६)।

ओवयण न [अवपतन] अवतरण, नीचे उतरना (भग ३, २—पत्र १७७)।

ओवयाइयय वि [औपयाचितक] मनौती से प्राप्त किया हुआ, मनौती से मिला हुआ (ठा १०)।

ओवयारिय वि [औपचारिक] उपचार-सबन्धी (पचा ६, पुष्फ ४८६)।

ओवर पु [ट] निकर, समूह (दे १, १५७)।

ओववाइय वि [औपपातिक] १ जिसकी उत्पत्ति होती हो वह (पच १)। १ पु ससारी, प्राणी (आचा)। ३ देव या नारक-जीव (वस ४)। ४ न देव या नारक जीव का शरीर (पच १)। ५ जैन आगम-अन्य विशेष, औप-पातिक सूत्र (श्रोप)।

ओववाइय वि [औपपातिक] एक जन्म से दूसरे जन्म में जानेवाला (सूत्र १, १, ११)।

ओवसग्गिय वि [औपसर्गिक] १ उपसर्ग से सबन्ध रखनेवाला, उपद्रव—समर्थ रोगादि। २ शब्द-विशेष, प्र, परा आदि अव्यय रूप शब्द (अणु)।

ओवसमिअ पुन [औपशमिक] १ उपशम। २ वि उपशम में उत्पन्न। ३ उपशम होने पर होनेवाला (विमे २१७४)।

ओवसेर न [टे] १ चन्दन, सुगन्धि काष्ठ-विशेष। २ वि रति-योग्य (दे १, १७३)।

ओवस्सय देखो उवस्सय, 'घट्टिज्ज ओवस्सय तण्य तेणाइरस्वट्ठा' (पव ८१)।

ओवड मक [अव + वह] १ वह जाना, वह चलना। २ हूवना। कवक्क, ओवुअभमाण (कम)।

ओवहारिअ वि [औपहारिक] उपहार-सबन्धी (विक ७५)।

ओवहिय वि [औपधिक] माया से गुप्त विचरनेवाला (गाया १, २)।

ओवाअअ पु [दे] आपातप, जल-समूह की गरमी (पड)।

ओवाइय देखो ओववाइय (राज)।

ओवाइय देखो उवयाइय (सुपा ११३)।

ओवाइय वि [आवपातिक] सेवा करनेवाला (ठा १०)।

ओवाडण न [अवपाटन] विदारण, नाश (ठा २, ४)।

ओवाडिय वि [अवपाटित] विदारित (श्रोप)।

ओवाय सक [उप + याच्] मनौती करना। वक्क ओवायत, ओवाइयमाण (सुर १३, २०६, गाया १, ८—पत्र १३४)।

ओवाय पु [अवपात] १ सेवा, भक्ति (ठा ३, २, श्रोप)। २ गर्त, गड्ढा (परह १, १)। ३ नीचे गिरना (परह १, ४)।

ओवाय वि [औपाय] उपाय-जन्य, उपाय-सबन्धी (उत्त १, २८)।

ओवार सक [अप + वारय्] आच्छादन करना, ढकना। सक्क ओवारिअ (अभि २१३)।

ओवारिअ वि [दे] धान्य भरने का एक प्रकार का लम्बा कोठा, गोदाम (राज)।

ओवारिअ वि [दे] ढेर किया हुआ, राशि-कृत (स ४८७, ४८)।

ओवारिअ वि [अपवारित] आच्छादित, ढका हुआ (मै ६१)।

ओवास अक [अव + काश्] शोभना, विराजना। ओवासइ (प्राप)।

ओवास अक [अव + काश्] अवकाश पाना, जगह मिलना। ओवासइ (प्राप्र, कुमा ७, २३, प्राक्क ६६)।

ओवास पु [अवकाश] अवकाश, खाली जगह (पात्र, प्राप्र, मे १, ५४)।

ओवास पु [उपवास] उपवास, भोजनाभाव (पठम ४२, ८६)।

ओवास पु [अवकाशान्तर] आकाश-गणन (भग २०, २—पत्र ७७६)।

(सुपा २६२) । २ वि खीचनेवाला, आकर्षक (उप पृ २७७) ।
 कड्ढणया खी [कर्षणता] आकर्षण (उप पृ २७७)
 कड्ढाविय वि [कर्षित] खीचवाया हुआ, बाहर निकलवाया हुआ (भवि) ।
 कड्ढिअ वि [दे] बाहर निकला हुआ, गुजराती मे 'काढेलु', 'तो दासीहि सुणए व्व कड्ढिओ कुट्टिअए व्हि' (सिरि ६८६) ।
 कड्ढिअ वि [कुट्ट] ? आकृष्ट, खीचा हुआ (परह १, ३) । २ पठित, उच्चारित (स १८२) ।
 कड्ढोकड्ढ न [कर्षापरुष] खीचातान (उत्त १६) ।
 कड्ढ सक [कथ] ? काथ करना । २ उवाला । ३ तपाना, गरम करना । कड्ढ (हे ४, २२०) । वक्क कड्ढमाण (पि २२१) । कवक्क 'राया जपइ एय सिचह रे रे वड्ढतिल्लेय' (सुपा १२०), कड्ढीअमाण (पि २२१) ।
 कड्ढ मड्ढकड्ढेत्त वि [कड्ढकड्ढायमान] कड्ढ-कड्ढ आवाज करता (पउम २१, ५०) ।
 कड्ढण न [कथन] काथ करना, 'रागणुणेय पावइ खड्ढणकड्ढणइ मजिड्ढा' (कुप्र २२३) ।
 कड्ढिअ न [दे] कड्ढी (पिंड ६२४) ।
 कड्ढिअ वि [कथित] ? उवाला हुआ । २ खूब गरम किया हुआ, 'कड्ढिओ खलु निवरसो अइकड्ढुओ एव जाएइ' (श्रा २७, ओष १४७, सुपा ४६६) ।
 कड्ढिआ खी [दे] कड्ढी, भोजन-विशेष (दे २, ६७) ।
 कड्ढिण } वि [कठिन] ? कठिन, कर्कश,
 कड्ढिणग } कठोर, परुष (परह १, ३, पात्र) ।
 २ न तुण-विशेष (आचा २, ३, ३) । ३ पण, पत्ता (परह २, ५) ।
 कड्ढोर वि [कठोर] ? कठिन, परुष, निष्ठुर ।
 २ पु इस नाम का एक राजा (पउम ३२, २३) ।
 कण सक [कवण] शब्द करना, आवाज करना । कणइ (हे ४, २३६) । वक्क कणत (सुर १०, २१८, वज्जा ६६) ।

कण सक [कण] आवाज करना । कणइ (हे ४, २३६) ।
 कण पुं [कण] ? कण, लेश, 'गुणकणमवि परिकहिउ न सक्कइ' (सार्ध ७६) । २ विकीर्ण दाना (कुमा) । ३ वनस्पति-विशेष, (परण १) । ४ पु एक म्लेच्छ देश (राज) । ५ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७) । ६ तरण्डुल, श्रोदन (उत्त १२) । ७ कनिक (आचा २, १) । ८ विटु, 'विटुअ कणइअ' (पात्र) । ९ इअ वि [वत्] विन्दुवाला (पात्र) । [कुडग] पु [कुण्डक] श्रोदन की बनी हुई एक भक्ष्य वस्तु, 'कणकुडग चड्ढाए विटु भुजइ सूर्यो' (उत्त १२) । १० पूपलिया खी [पूपलिका] भोजन-विशेष, कणिक (आचा) की बनाई हुई एक खाद्य वस्तु (आचा २, १) । ११ भक्ख पु [भक्ष] वैशेषिक मत का प्रवर्तक एक ऋषि (राज) । १२ विचि खी [वृत्ति] भिक्षा, भोज (सुपा २३४) । १३ वियाणग पु [वितानक] देखो कणग-वियाणग (सुज २०, इक) । १४ सतानय पु [सतानक] देखो कणग सतानय (इक) । १५ इ पु [इ] वैशेषिक मत का प्रवर्तक ऋषि (विसे २१६४) । १६ यण वि [कीर्ण] विन्दुवाला (पात्र) ।
 कण पु [कण] शब्द, आवाज (उप पृ १०३) ।
 कणइकेउ पु [कनिकेत्तु] इस नाम का एक राजा (दस) ।
 कणइपुर न [कनिकपुर] नगर-विशेष, जो महाराज जनक के भाई कनक की राजधानी थी (ती) ।
 कणइर पुं [कर्णिकार] कणोर, वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३२) ।
 कणइल्ल पुं [दे] शुक, तोता, सुग्गा, सुग्गा (दे २, २१, पड्, पात्र) ।
 कणई खी [दे] लता, बल्ली (दे २, २५, पड्, स ४१६, पात्र) ।
 कणगर न [कनङ्गर] पाषाण का एक प्रकार का हथियार (विपा १, ६) ।
 कणकण पुं [कणकण] कण-कण आवाज (आवम) ।

कणकणकण अक [दे] कण-कण आवाज करना । कणकणकणति (पउम २६, ५३) ।
 वक्क कणकणकणत (पउम ५३, ८६) ।
 कणकणग पु [कनकनक] ग्रह विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष (ठा २, ३) ।
 कणककणिअ वि [कणकणिन] कण-कण आवाजवाला (कण्ण) ।
 कणखल न [दे] उद्यान-विशेष (सट्टि ६ वी) ।
 कणग वि [कानक] सुवर्ण रम पाया हुआ (कपडा) (आचा २, ५, १, ५) । १० पट्ट वि [पट्ट] सोने का पट्टावाला (आचा २, ५, १, ५) ।
 कणग देखो कण (कण्ण) ।
 कणग [दे] देखो कणय = (दे) (परह १, २) ।
 कणग पु [कनक] ? ग्रह विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७) । २ रेखा-सहित ज्योति-पिण्ड, जो आकाश से गिरता है (ओष ३१० भा, जी ६) । ३ विन्दु । ४ शलाका, सलाई (राज) । ५ धृत्वर द्वीप का अधिपति देव (सुज १६) । ६ विल्व वृक्ष, बेल का पेड़ (उत्तनि ३) । ७ न सुवर्ण, सोना (स ६४, जी ३) । ८ कव वि [कान्त] ? कनक की तरह चमकता (आचा २, ५, १) । २ पु देव विशेष (दीव) । ३ कुड न [कुट्ट] ? पर्वत-विशेष का एक शिखर (ज ४) । २ पु स्वर्ण मय शिखरवाला पर्वत (जीव ३) । ३ केउ पुं [केत्तु] इस नाम का एक राजा (राया १, १४) । ४ गिरि पु [गिरि] ? मेरु पर्वत । २ स्वर्ण-प्रचुर पर्वत (ओष) । ५ ज्जय पु [ज्जय] इस नाम का एक राजा (पचा ५) । ६ पुर न [पुर] नगर विशेष (विपा २, ६) । ७ प्रभ पु [प्रभ] देव-विशेष (सुज १६) । ८ प्रभा स्त्री [प्रभा] ? देवी विशेष । २ ज्ञाता-धर्मसूत्र का एक अध्यायन (राया २, १) । ३ कुडिअ न [कुडिअ] जिममे मोने के फूल लगाए गए हो ऐसा वस्त्र (निचू ७७) । ४ माला स्त्री [माला] ? एक नियाधर की पुत्री (उत्त ६) । ५ एक म्बनाम व्यात माध्वी (सुर १५, ६७) । ६ रहु पु [रथ] इस नाम का एक राजा (ठा ७, १०) । ७ लमा स्त्री

ओसहिं, ही स्त्री [ओपधि] १ वनस्पति (परण १) । २ नगरी-विशेष (राज) । ० महिहर पु [महिहर] पर्वत-विशेष (अच्छु ४४) ।

ओसहिअ वि [आवसथिक] चन्द्रार्ध-दानादि व्रत को करनेवाला (गा ३४६) ।

ओसा स्त्री [दे] १ ओस, निशा जल (जी ५, ग्राचा, विसे २५७६) । २ हिम, बरफ (दे १, १६४) ।

ओसाअ पु [दे] प्रहार की पीडा (दे १, १५२) ।

ओसाअ पु [अवश्याय] हिम, श्राम (से १३, ५२, दे ८, ५३) ।

ओसाअन वि [दे] १ जभाई खाता हुआ श्रानसी । २ बैठता । ३ वेदना-युक्त (दे १, १७०) ।

ओसाअण वि [दे] १ महीशान, जमीन का मालिक । २ श्रापोशान (पड्) ।

ओसाण न [अवसान] १ अन्त (ठा ४) । २ ममीपता, सामीप्य (सूत्र १, ४) ।

ओसाण न [अवसान] गुरु के समीप स्थान, गुरु के पाम निवास (सूत्र १, १४, ४) ।

ओसाणिहाण वि [दे] विवि-पूर्वक अनुष्ठित (दे १, १६३) ।

ओसाय पु [अवश्याय] ओस, निशा-जल (जोम ३१) ।

ओसायण न [अवसादन] परिशादन, नाश (विने) ।

ओसार मक [अप + सारय्] दूर करना । श्रोमारेहि (म ४०८) । कर्म श्रोसारिज्जतु (म ४१०) । सक ओसारिवि (भवि) ।

ओमार पु [दे] गो-वाट, गो-वाडा (दे १, १४६) ।

ओमार पु [अपसार] अपसरण (ने १३, १४) । ओमार देगो ऊमार = उत्तार (भवि) ।

ओमार पु [अपसार] वज्र, वज्रर (ने १२, ५६) ।

ओमारिअ वि [अपमारित] दूर किया हुआ, श्राणीन (गा ६६, पजम २३, ८) ।

ओमारिअ वि [अपमारित] अवनमित, गडकाया हुआ (श्रीव) ।

ओसास (अप) देखो ओवास = अक्काश (भवि) ।

ओसिअ वि [दे] १ अचल, चल-रहित (दे १, १५०) । २ अपूर्व, असाधारण (पड्) ।

ओसिअ वि [उपित] १ बसा हुआ, रहा हुआ (सूत्र १, १८, ४) । २ व्यवस्थित (सूत्र १, ४, १, २०) ।

ओसिअत वक [अवसीदत्] पीडा पाता हुआ (हे १, १०१, से ३, ५१) ।

ओसिअवि वि [दे] प्रात, सूँघा हुआ (दे १, १६२, पात्र) ।

ओसिचिचु वि [अपसेचयित्] अपसेक करनेवाला (सूत्र २, २) ।

ओसिक्खिअ न [दे] १ गति-व्याघात । २ अरति-निहित (दे, १, १७३) ।

ओसित्त वि [अवमित्त] भीजाया हुआ, सिक्त (ग्राचा २, १, १, १) ।

ओसित्त वि [दे] उपलिप्त (दे १, १५८) ।

ओसिय वि [अवसित्] १ पर्यवसित । २ उपशान्त (सूत्र १, १३) । २ जीत, पराभूत (विसे) ।

ओसिरण न [दे] व्युत्सर्जन, परिव्याण (पड्) ।

ओसीअ वि [दे] श्रवी-मुख, अवनत (दे १, १५८) ।

ओसीर देखो उत्तीर (परह २, ५) ।

ओसीस अक [अप + वृत्] १ पीछे हटना । २ घुमाना, फिरना । सक ओसीसिऊण (दे १, १५२) ।

ओसीस वि [अप + वृत्] अपवृत्त (दे १, १५२) ।

ओसुअ वि [उत्सुक] उत्कण्ठित (प्राप्र) ।

ओसुअवि वि [दे] उत्प्रेक्षित, कल्पित (दे १६१) ।

असुभ सक [अव + पातय्] १ गिरा देना । २ नष्ट करना । कर्म श्रोमुभति (म ७, ६१) । वक ओसुभइ (मे ४, ५४) । कवक ओसुभत (पि ५३५) ।

ओसुक सक [तिज्] तीक्ष्ण करना, तेज करना । श्रोमुनइ (हे ५, १०४) ।

ओसुमक वि [अवशुक्क] सूखा हुआ (पजम ५३, ७६, ५, १४) ।

ओसुमय अक [अ + शुप्] सूपना । वक ओसुमयन (से ६, ६३) ।

ओसुद्ध वि [दे] १ विनिपतित (दे १, १५७) । २ विनाशित (से १३, २२) ।

ओसुद्धत देखो ओसुं भ ।

ओसुय न [औत्सुक्य] उत्सुकता, उत्कण्ठा (श्रीप, पि ३२७ ए) ।

ओसोयणी स्त्री [अवस्वापनी] विद्या-ओसोवणिया विशेष, जिसके प्रभाव से दूसरे ओसोवणी को गाढ निद्राधीन किया जा सकता है (सुपा २२०, एया १, १६, कप्य) ।

ओस्सक पु [अवष्वक] अपसर्पण, पीछे हटना (पव २) ।

ओस्सकण देतो ओस्सकण (पिंड २८५) ।

ओस्सा [दे] देखो ओसा (कस) ।

ओस्साड पु [अवशाट] नाश, विनाश (सण) ।

ओह देखो ओघ (परह १, ४, गा ५१८, निचू १६, श्रोघ २, धम्म १० टी) । ५ सूत्र, शास्त्र-सम्बन्धी वाक्य (विसे ६५७) ।

ओह सक [अव + तृ] नीचे उतरना । श्रोहइ (हे ४, ८५) ।

ओह पुन [ओघ] १ उत्सर्ग, सामान्य नियम, (एदि ५२) । २ सामान्य, साधारण (वव १) । ३ प्रवाह (राय ४७ टी) । ४ सलिल-प्रवेश । ५ श्रास्त्र-द्वार (ग्राचा २, १६, १०) ।

६ ससार (सूत्र १, ६, ६) । ७ सूय न [श्रुत] शास्त्र-विशेष (एदि ५२) ।

ओहक पु [दे] हास हँसी (दे १, १५३) ।

ओहजलिया स्त्री [दे] क्षुद्र जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) ।

ओहंतर वि [ओघतर] ससार पार करने-वाला (मुनि), (ग्राचा) ।

ओहंस पु [दे] १ चन्दन । २ जिसपर चन्दन घिसा जाता है वह शिला, चन्द्रोटा या होरसा (दे १, १६८) ।

ओहट्ट अक [अप + घट्ट] १ कम होना, हास पाना । २ पीछे हटना । ३ सक हटाना, निवृत्त करना । श्रोहट्टइ (हे ४, ४१६) । वक ओहट्ट (से ८, ६०, सुपा २३३) ।

ओहट्ट पु [दे] १ श्रवणुठन । २ नीवी, कटि वक्र । ३ वि अपवृत्त, पीछे हटा हुआ (दे १, १६६, भवि) ।

कणोडिआ स्त्री [दे] गुग्गा, बुँबनी (दि २, २१)।

कणेर देखो कणिगआर (हे १, १६८; पि २५८)।

कणेरु स्त्री [कणेरु] हस्तिनी, हपिनी कणेरुया (हे २, ११६; कुमा. राया १, १—पत्र ६४)।

कणोवअ न [दे] गरम किया हुआ जल, तेन वगैरह (दि २, १६)।

कणग पुं [कन्या] राशि-विशेष, कन्या-राशि-‘बुद्धे य कारणम्मि वट्टए उच्चो’ (पउम १७, ८१)।

कणग पु [कणव] इस नामका एक परिव्राजक, ऋषि विशेष (श्रौप, अमि २६२)।

कणग पु [कर्ण] १ कोटि भाग, अग्राश (सुज १, १)। २ एक म्लेच्छ जाति (सुच्छ १५२)।

कणग पुन [कर्ण] १ कान, अचण, अचण-‘करणाद्’ (मि ३५८, प्रासू २)। १ पु अङ्ग

देश का इस नाम का एक राजा, युधिष्ठिर का बड़ा भाई (राया १, १६)। ३ काना, वस्तु के छोर का एक अंश (अग० सूत्र ५१, ६६)। °उर, °ऊर न [°पूर] कान का आभूषण (प्राप्त, हेका ४५)। °गइ स्त्री

[°गति] मेरु-सम्बन्धी एक डारी (जो १०)। °जयसिंहदेव पु [°जयसिंहदेव] गुजरात

देश का बारहवीं शताब्दी का एक यशस्वी राजा (ती)। °देव पु [°देव] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का सौराष्ट्र-देशीय एक राजा

(ती)। °धार पु [°धार] नाविक, न्यायिक (राया १, ८)। °पाउरण पु [°पावरण] १ इस नाम का एक अन्तर्द्वीप। २ उस अन्त-

र्द्वीप का निवासी (परण १)। °पावरण देखो °पाउरण (इक)। °पीठ न [°पीठ] कान का एक प्रकार का आभूषण (ठा ६)।

°पूर देखो °ऊर (राया १, ८)। °रवा स्त्री [°रवा] नदी-विशेष (पउम ४०, १३)। °वालिया स्त्री [°वालिका] कान के ऊपर

भाग में पहना जाता एक प्रकार का आभूषण (श्रौप)। °वेहणग न [°वेधनक] उत्सव-विशेष, कर्णवेधनसव (श्रौप)। °सक्कुली स्त्री

[°शाशुली] १ कान का छिद्र। २ कान की लवाई (राया १, ८)। °सोहण न

[°शोधन] कान का मैल निकालने का एक उपकरण (नित्तू ४)। °धार पु [°धार] देखो °वार (अच्छु २४, स ३२७)। देखो कन्न।

कणगआर देखो कणिगआर (प्राक ३०)। कणगउज्ज पु [कान्यकुब्ज] १ देश-विशेष,

दोआब, गङ्गा और यमुना नदी के बीच का देश। २ न उस देश का प्रधान नगर, जिसको आजकल ‘कन्नौज’ कहते हैं (ती, कण्पु)।

कणगवाल न [दे] कान का आभूषण—कुण्डल वगैरह (दि २, २३)। कणगगा देखो कन्नगा (भाव ४)।

कणगच्लुरी स्त्री [दे] गृह-गोषा, छिपकली (दि २, १६)। कणगडय (अप) देखो कणग (हे ४, ४३२, ४३३)।

कणगल (अप) वि [कर्णाट] १ देश विशेष, कर्णाटक। २ वि उस देश का निवासी (पिय)।

कणगलोयण पुन [कर्णलोचन] देखो कणिग लोयण (सुज १०, १६)। कणगल पुन [कर्णल] ऊपर देखो (सुज १०, १६ टी)।

कणगस वि [कन्यस] अथम जघन्य (उत्त ५)। कणगस्सरिय वि [दे] १ कानी नजर से देखा हुआ। २ न कानी नजर से देखना (दि २, २४)।

कणगा स्त्री [कन्या] १ ज्योतिष शास्त्र-प्रसिद्ध एक राशि। २ कन्या, लडकी, कुमारी (कण्पु, पि २८२)। °चोलय न [°चोलन] धान्य-विशेष, जवनाल (एदि)। °णय न [°नय] चोल देश का एक प्रधान नगर, ‘चोलदेवाव-

यसे करणारणयनयरे’ (ती)। °लिय न [°लीक] कन्या के विषय में बोला जाता भूठ (पण्ड १, ३)।

कणगाआस न [दे] कान का आभूषण—कुण्डल वगैरह (दि २, २३)। कणगाइधण न [दे] कान का आभूषण—

कुण्डल वगैरह (दि २, २३)। कणगाड पु [कर्णाट] १ देश-विशेष, जो आजकल ‘कर्णाटक’ नाम से प्रसिद्ध है। २

वि उस देश में उत्पन्न, वहाँ का निवासी (कण्पु)।

कणगास पु [दे] पर्यन्त, अन्त-भाग (दि २, १४)।

कणिग पु [कर्णि] एक नरक-स्थान (क्षेत्र २६)। कणिगआ स्त्री [कर्णिका] १ पञ्च-उदर, कमल

का बीच-कोप (दि ६, १४०)। २ कोण, अक्ष (अणु, ठा ८)। ३ शक्ति वगैरह के बीच का मुख-भूत, गुप मुख (ठा ८)।

कणिगआर पु [कर्णिगार] १ बुन विशेष, कनेर का गाल (कुमा. हे २, ६५, प्राप्र)। २ गोशालक का एक भक्त (भग १४, १०)। ३ न कनेर का फूल (राया १, ६)।

कणिगलायण न [कर्णिलायण] नक्षत्र विशेष का एक गोत्र (इक)। कणणीरह देखो कन्नौरह।

कणणुपल न [कर्णोत्पल] कान का आभूषण-विशेष (कण्पु)। कणणेर देखो कणिगआर (हे १, १६८)।

कणणोच्छडिआ स्त्री [दे] दूसरे की बात गुप्तगुप्त सुननेवाली स्त्री (दि २, २२)। कणणोडह स्त्री [दे] स्त्री को पहनने का

कणणोडिआ } बल विशेष, नीरङ्गी (दि २, २० टी)। कणणोदत्ती [दे] देखो कणणोच्छडिआ (दि २, २२)।

कणणोपल देखो कणणुपल (नट)। कणणोल्ली स्त्री [दे] १ चञ्चु, चींन, पत्ती का

ओर, ठोठ। २ अचतंत, शेर, सुएण विशेष (दि २, ५७)। कणणोवगणिगआ स्त्री [कर्णोपगणिक] कर्णाकरिणी, कानाकानी (दि १, ६१)।

कणणोस्सरिय [दे] देखो कणणस्सरिय (दि २, २४)। कण्ह पु [कण्ह] कन्द विशेष (उत्त ३६, ६६)।

कण्ह पु [कण्ह] १ श्रीकृष्ण, माता देवकी और पिता वसुदेव से उत्पन्न नववां वामुदेव

(राया १, १६)। २ पाचवां वसुदेव और बलदेव के पूर्व जन्म के गुरु का नाम (सम १५३)। ३ देशावकाशिक व्रत की प्रतिवर्ति

ओहासिय वि [अवभापित] याचित (पचा १३, १०)।

ओहि पुत्री [अवधि] १ मर्यादा, सीमा, हद (गा १७०, २०६)। २ रूपि-पदार्थ का अतीन्द्रिय ज्ञान-विशेष (जवा, महा)। ०जिण पुं [०जिन] अवधिज्ञानवाला साधु (परह २, १)। ०णाण न [०ज्ञान] अवधिज्ञान (वव १)। ०णाणावरण न [०ज्ञानावरण] अवधिज्ञान का प्रतिबन्धक कर्म (कम्म १)। ०दसण न [०दर्शन] रूपी वस्तु का अतीन्द्रिय सामान्य ज्ञान (मम ११)। ०दसणावरण न [०दर्शनावरण] अवधिदर्शन का आचारक कर्म (ठा ६)। ०नाण देखो ०णाण (प्राहू)। ०मरण न [०मरण] मरण-विशेष (भग १३, ७)।

ओहिअ वि [अवतीर्ण] उतरा हुआ (कुमा)।
ओहिअ वि [औधिक] औत्सर्गिक, सामान्य रूप से उक्त (अणु १६६, २००)।

ओहिण वि [अपभिन्न] रोका हुआ, अटकाया हुआ (से १३, २४)।

ओहित्य न [दे] १ विपाद, खेद। २-रभस, वेग। ३ वि विचारित (दे १, १६८)।

ओहिर देखो ओहीर। ओहिरइ (पड्)।

ओहिर देखो ओहर = अण + हृ। कर्म ओहिरामि (पि ६८)।

ओहीअत वि [अवहीयमान] क्रमश कम होता हुआ (से १२, ४२)।

ओहीण वि [अवहीन] १ पीछे रहा हुआ (अभि ५६)। २ अणगत, गुजरा हुआ (से १२, ६७)।

ओहीर अक [नि + द्रा] सो जाना, निद्रा लेना (हे १, १२)। वक ओहीरमाण (णया १, १, विपा २, १, कप्प)।

ओहीर अक [सद्] खिन्न होना। वक ओहीरत च सीरत (पात्र)।

ओहीरिअ वि [अवधीरित] तिरस्कृत, परिभूत (आचा २, १)।

ओहीरिअ वि [दे] १ उदगीत। २ अवनत, खिन्न (दे १, १६३)।

ओहुअ वि [दे] अभिभूत, पराभूत (दे १, १५८)।

ओहुंज देखो उवहुज। ओहुंजइ (भवि)।

ओहुड वि [दे] विफल, निष्फल (दे १, १५७)।

ओहुप्पत वि [आक्रम्यमाण] जिसपर आक्रमण किया जाता हो वह (से ३, १८)।

ओहुर वि [दे] १ अवनत, अवाड्-मुख (गउड)। २ खिन्न, खेद-प्राप्त। ३ सस्त, ध्वस्त (दे १, १५७)।

ओहुल्ल वि [दे] १ खिन्न। १ अवनत, नीचे झुका हुआ (भवि)।

ओहुणण न [अवधूनन] १ कम्प। २ उल्लङ्घन। ३ अपूर्व करण से भिन्न अन्त्य का भेद करना (आचा १, ६ १)।

ओहूय वि [अवधूत] जलद्वित (बह १)।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवे ओआराइसद्सकलयो रावमो तरगो समत्तो ।
तस्समत्तीए अ सरविहाओवि समत्तो ॥

क

क पु [क] १ प्राकृत वरुण-माला का प्रथम व्युत्पादक, जिसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है (प्राप, प्रमा)। २ ब्रह्मा (दे ५, २६)। ३ विण हूए पाप का स्वीकार, 'कत्ति कड मे पाप' (आमम)। ४ न पानी, जल (स ६११)। ५ गुप (सुर १६, ५५)। देवो ०अ = क। क देवो किम् (गउड, महा)।

कअत देवो नय-नय = वृत्तवत् (प्राक ३५)। कइ वि व [कति] किनना, 'तं भवे। कइदिस मानवेर' (भग)। ०अ वि [क] कतिपय, कइएण; 'मोएमि जाव तुज्ज, पियरं कइएणु दिवरेणु' (पउम ३४, २७)। ०अव वि [०पय] कतिपय, कइएण (हे १, ०५०)। ०इ अ [०चिन] कइएण (उप ४ ३)। ०त्य वि [०य] किनना, यौन संख्या का ? (विमे

६१७)। ०वइय ०वय, ०वाह वि [०पय] कइएण (पउम ६१, १६, उवा, पड्, कुमा, हे १, २५०)। ०वे अ [०अपि] कइएण (काल, महा)। ०विह वि [०विध] कितने प्रकार का (भम)।

कइ वि [कृतिन्] १ विद्वान्, परिदत्त। २ पुरणवान् (सूख २, १, ६०)।

कइ अ [कचित्] कही, किसी जगह मे (दसकू २, १४)।

कइ अ [कदा] कब, किस समय ?, 'एआई उण मज्जो यणभार कइ णु उव्वहइ ?' (गा ८०३)।

कइ पु [कपि] बन्दर, वानर (पात्र)। ०दीय पु [०द्वीप] द्वीप-विशेष, वानर द्वीप (पउम ५५, १६)। ०धय पु [०ध्वज]

१ वानर-द्वीप के एक राजा का नाम (पउम ६, ८३)। २ अजुंन (हे २, ६०)। ०हसिअ न [०हसित] १ स्वच्छ आकाश मे अचानक बीजली का दर्शन। २ वानर के समान विकृत मुँह का हँसना (भग ३, ६)।

कइ देखो कवि = कवि (गउड, सुर १, २७)। ०अर (अण) पु [कवि] श्रेष्ठ कवि (पिंग)। ०मा औ [०त्व] कवित्व, कविपन (षड्)। ०राय पु [०राज] १ श्रेष्ठ कवि (पिंग)। २ 'गउडवहो' नामक प्राकृत काव्य के कर्ता वाकपतिराज-नामक कवि, 'आसि कइरायईधो वप्पइराओ ति पणइलवो' (गउड ७६७)।

कइअ वि [कयिक] खरीदनेवाला, ग्राहक, 'किणतो कइओ होइ, विक्किणतो य वाणिओ' (उत्त ३५, १४)।

कद (मा) देखो कड = कृत (प्राक् १०३)
 कदग देखो कयग (हम्मोर ३४)।
 कदण देखो कडण = कदन (कुमा)।
 कदली देखो कयली (पण १—पत्र ३२)।
 कदु देखो कड = क्तु (प्राक् १२)।
 कदुअ (शौ) अ [कृत्या] करके (प्राक् ८८)।
 कदुइया स्त्री [दे] वल्ली-विशेष, कदइ,
 लौकी (पण १—पत्र ३३)।
 कदुराण (मा) वि [कदुण] थोडा गरम
 (प्राक् १०२)।
 कद्दम पुन [कर्दम] कीचड, काँवो (कुप्र
 ६६)। °ल वि [°ल] कीचडवाला (सूअनि
 १६१)।
 कद्दम } पुं [कर्दम] १ काँवो, कीच (पण
 कद्दमग } १ ४)। २ देव विशेष, एक नाग-
 राज (भग ६, ३)।
 कद्दमिअ वि [कर्दमित] पङ्क-युक्त, कीचड
 वाला (से ७, २०, गडड)।
 कद्दमिअ पु [दे] महिप, मैसा (दे २, १५)।
 कद्द देखो कण्ण = कण (सुर १२, सुर २,
 १७१, सुपा ५२४, धम्म १२ टी, ठा ४,
 २, सुपा ६५, पात्र)। °यस पु [°वतस]
 कान का आभूषण (पात्र)।
 कद्द देखो कण्ण (कुलक)। °एव देखो कण्ण-
 देव (कुप्र ४)। °वट्टि, °वट्टि स्त्री [°वृत्ति]
 किनारा, अग्र भाग (कुप्र ३३१, ३३४,
 विचार ३२७, पव १२५)।
 कद्दउज्ज देखो कण्णउज्ज (कुमा)।
 कद्दगा स्त्री [कन्या] कन्या, लडकी,
 कुमारी (सुर ३, १२२, महा)।
 कद्दस वि [कनीयस्] कनिष्ठ, जघन्य,
 'कन्नसमज्जिमज्जेडु' (पव १५७)।
 कद्दा देखो कण्णा (सुर २, १५४, पात्र)।
 कद्दाड देखो कण्णाड (भवि)।
 कद्दारिय वि [दे] विभूषित, अलङ्कृत, 'आपहे'
 कद्दारिज गद्दु' (भवि)।
 कद्दरीह पु [कर्णारथ] एक प्रकार की शिविका,
 घनाब्ज का एक प्रकार का वाहन (आया
 १, ३)।
 कद्दुल्लड (अप) पु [कर्ण] कान, अवणेन्द्रिय
 (कुमा)।
 कद्दोरय देखो ऋणिआर (कुमा)।

कन्नोली [दे] देखो कण्णोली (पात्र)।
 कन्ह देखो कण्ह (सुपा ५६६ कप्प)। °सह
 न [°सह] जैन साधुओं के एक कुल का
 नाम (कप्प)।
 कपध देखो कमन्ध (प्राक् १३)।
 कर्पिजल पु [कर्पिजल] पक्षि-विशेष—१
 चातक। २ गौरा पक्षी (पण १, १)।
 कपूर देखो कपूर (आ २७)।
 कपप अक [कृप्] १ समर्थ होना। २
 कल्पना, काम मे आना। ३ सक. काटना,
 छेदना। कप्पइ, कप्पए (कप्प, महा, पिग)।
 कर्म कप्पिजइ (हे ४, ३५७)। कृ कप्प-
 णिज्ज (आव ६)। प्रयो कप्पावेज्ज (निव्व
 १७)। वक्क कप्पावत (निव्व १७)।
 कपप सक [कल्पय्] १ करना, बनाना।
 २ वर्णन करना। ३ कल्पना करना। वक्क
 कप्पेमाण (विपा १, १)। सकृ कप्पेऊण
 (पचव १)।
 कपप वि [कल्पय्] ग्रहण-योग्य (पचा १२)।
 कपप पु [कल्प] १ प्रक्षालन (पिड २६६,
 २७१, ३०५, गच्छ २, ३२)। २ आचार,
 व्यवहार (वव १, पव ६६)। ३ दशाधु-
 तस्कन्ध सूत्र। ४ कल्प-सूत्र। ५ व्यवहार
 सूत्र (वव १)। ६ वि उचित (पचा १८,
 ३०)। °काल पु [°काल] प्रभूत काल
 (सूत्र १, १, ३, १६)। °वर वि [°धर]
 कल्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार
 (वव १)।
 कपप पु [कल्प] १ काल-विशेष, देवों के दो
 हजार युग परिमित समय, 'कम्माण कप्पिआए
 काहि कप्पतरेसु एण्वेस' (अच्छु १८,
 कुमा)। २ शास्त्रीय विधि, अनुष्ठान (ठा
 ६)। ३ शास्त्र-विशेष (विसे १०७५, सुपा
 ३२४) ४ कम्बल-प्रमुख उपकरण (श्रीघ
 ४०)। ५ देवों का स्थान, वारह देवलोक
 (भग ५, ४, ठा २, १०)। ६ वायु देवलोक
 निवासी देव, वैमानिक देव (सम २)। ७
 वृक्ष-विशेष, मनोवाञ्छित फल को देनेवाला
 वृक्ष, कल्प-वृक्ष (कुमा)। ८ शस्त्र-विशेष,
 'असिखेडयकप्पतोमरविहृत्या' (पवम ६,
 ७३)। ९ अघिवास, स्थान (बृह १)। १०
 राजा नन्द का एक मन्त्री (राज)। ११ वि

समर्थ, शक्तिमान् (आया १, १३)। १२
 सदृश तुल्य, 'केवलकप्प' (आवम, पण २,
 २)। °ट्ट पु [°स्थ] बालक, बच्चा (वव
 ७)। °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] साधुओं का
 शास्त्रोक्त अनुष्ठान (बृह ६)। °ट्टिया स्त्री
 [°स्थिका] १ लडकी, बालिका (वव ४)।
 २ तरुण स्त्री (बृह १)। °ट्टी स्त्री [°स्था]
 १ बालिका, लडकी (वव ६)। २ कुलाङ्गना,
 कुल वधु (वव ३)। °तरु पुं [°तरु] कल्प-
 वृक्ष (प्राक् १६८, हे २, ७६)। °त्थी स्त्री
 [°त्थी] देवी, देव-स्त्री (ठा ३)। °दुम,
 °दुदुम पु [°द्रुम] कल्प वृक्ष (धण ६,
 महा) °पायव पु [°पादप] कल्प-वृक्ष (पदि,
 सुपा ३६)। °पाहुड न [°प्राशृत] जैन
 ग्रन्थ विशेष (तो)। °रुक्ख पु [°वृक्ष]
 कल्प-वृक्ष (पण १, ४)। °वडिसय न
 [°वतसक] १ विमान-विशेष। २ विमान-
 वासी देव-विशेष (निर)। °वडिसया स्त्री
 [°वतसिका] जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमे कल्पा-
 वतसक देव-विमानों का वर्णन है (राय, निर
 १)। °विडवि पु [°विटपिन्] कल्प-वृक्ष
 (सुपा १२६)। °शाल पु [°शाल] कल्प वृक्ष
 (उप १४२ टी)। °साहि पु [°शासिन्] कल्प-वृक्ष
 (सुपा ३६६)। °सुत्त न [°सूत्र] श्रीमद्ब्राह्म
 स्वामि-विरचित एक जैन ग्रन्थ
 (कप्प, कस)। °सुय न [°श्रुत] १ ज्ञान-
 विशेष। २ ग्रन्थ-विशेष (एदि)। °ईअ पु
 [°तीत] उत्तम जाति के देव-विशेष, श्रेष्ठक
 और अनुत्तर विमान के निवासी देव (पण
 १, ५, पण १)। °ग पु [°ग] विधि को
 जाननेवाला (कस, शीप)। °य पु [°य]
 कर, बुझी, राज देव भाग (विपा १, ३)।
 कप्पत पु [कप्पान्त] प्रलय-काल, सहर-
 समय (कप्प)।
 कप्पड पु [कपेट] १ कपडा, वस्त्र (पवम
 २५, १८, सुपा ३४४, स १८०)। २ जोर
 वस्त्र, लकड़कार कपडा (पण १, ३)।
 कप्पडिअ वि [कार्पेटिक] मिथुन, भौखमगा
 (आया १, ८, सुपा १३८, बृह १)।
 कप्पडिअ वि [कार्पेटिक] कपटी, मायावी
 (आया १, ८—पव १५०)।
 कप्पण न [कल्पन] छेदन, काटना (सुपा
 १३८)।

कण्डुअ } पु [काङ्कडुरु] दुर्भेद्य माप,
कण्डुअ } उरद की एक जाति, जो कभी
पकता ही नहीं, 'कण्डुओ विव मामो, सिद्धि
न उवेइ जल्ल ववहारो' (वव ३) ।
कण्ण न [कङ्कण] हाथ का आभरण-विशेष,
बंगल (आ २८; गा ६६) ।
कण्ण पु [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक
जाति (उत्त ३६, १४७) ।
कण्णी छी [कङ्कण] हाथ का आभरण-
विशेष, 'सयमेव मकणीए धणीए त ककणी
वदा' (कुप्र १८५) ।
कण्ठि पु [कङ्कति] ग्राम- विशेष (राज) ।
कण्ठिज्ज पुत्री [काङ्कतीय] माघराज वश मे
दल्लन (राज) ।
कण्ठ्यपु [कङ्कत] १ नागवला-नामक श्रोपवि ।
२ सर्प की एक जाति । ३ पुत्री कथा, केश
सँवारने का उपकरण (सूअ १, ४) ।
कण्ठ्यास पु [कण्ठ्यास] कर्कोट, साप की
एक जाति (पाअ) ।
कण्ठी छी [दे] कथी, केश सँवारने का
उपकरण (ती १५) ।
कण्ठल न [कङ्कल] चमडो और मास रहित
प्रस्थि-पञ्जर, 'ककालवेसाए' (आ १६),
'अह नरकरकककालसकुले भीसएणमसाणे'
(वजा २०, दे २, ५३) ।
कण्ठस पु [कङ्कावरा] वनस्पति-विशेष,
(पएण ३३) ।
कण्ठिल्ल देखो कनेल्लि (सुपा ५५६, कुमा) ।
कण्ठुण देखो कण्ण - दे (सुल ३६, १४७) ।
कण्ठेलि पु [कङ्केलि] अशोक वृक्ष (मै ६०
विरु २८) ।
कण्ठेलि पु [दे कङ्केलि] अशोक वृक्ष (दे २,
१२, गा ४०४, सुपा १४०, ५६२, कुमा) ।
कण्ठेण [दे कर्कोट] १ वनस्पति विशेष,
कण्ठेण, एक प्रकार की सच्ची, जो वर्षा में
ही रोती है (दे २, ७, पाअ) । २ पु एक
नामगज । ३ माप की एक जाति (हे १,
२६, पट्) ।
कण्ठेल पु [कण्ठेल] १ कण्ठेल, शीतल-चीनी
के गुण का एक भेद । २ न उन वृक्ष का
फल, 'मण्णुनागानो न तवोल' (उप १०३१
टं) । दोनो कण्ठेल ।

कण्ठ सक [काङ्क्ष] चाहना, वाछना । कण्ठ
(हे ४, १६२, षट्) ।
कण्ठण न [काङ्क्षण] नीचे देखो (धर्म २) ।
कण्ठा छी [काङ्क्षा] १ चाह, अभिलाष (सूअ
१, १५) । २ आसक्ति, गुद्धि (भग) । ३
अन्य धर्म की चाह अथवा उसमे आसक्ति
रूप सम्यक्त्व का एक अतिचार (पडि) ।
कण्ठणिज्ज न [कण्ठणीज्ज] कर्म-विशेष
(भग) ।
कण्ठि वि [काङ्क्षिन्] चाहनेवाला (आचा,
गउड, सुर १३, २४३) ।
कण्ठिअ वि [काङ्क्षित] १ अभिलषित । २
काक्षा युक्त, चाहवाला (उवा, भग) ।
कण्ठिअ वि [काङ्क्षित] चाहनेवाला, अभि-
लाषी (गा ५५, सुपा ५३७) ।
कण्ठणी छी [दे] वल्ली-विशेष, कागनी
(पएण १) ।
कण्ठु ज्ञोन [कण्ठु] १ धान्य-विशेष, काँगन या
काँगो (ग ७, दे ७, १) । २ वल्ली-विशेष
(पएण १) ।
कण्ठुलिया छी [दे कण्ठुलिका] जिन-मन्दिर
की एक बड़ी आशातना, जिन-मन्दिर मे या
उसके नजदीक लघु या वृद्ध नीति का करना
(धर्म २) ।
कण्ठुण पुन [काङ्कण] १ एक देव-विमान
(देवेन्द्र १३१) । २ वि सोने का, सुवर्ण का,
'कचण खड' (वजा १५८) । ३ पहन [प्रभ]
१ रत्न-विशेष । २ वि. रत्न-विशेष का बना
हुआ (देवेन्द्र २६६) । ३ पायव पुं [पादप]
वृक्ष-विशेष (स ६७३) ।
कण्ठुण पुं [काङ्कण] १ वृक्ष-विशेष । २ स्व-
नाम-ख्यात एक श्रेष्ठी (उप ७२८ टी) । ३
न सुवर्ण, सोना (कप्प) । ४ उर न [पुर]
कलिग देश का एक मुख्य नगर (आक) ।
कण्ठु न [कण्ठु] १ सौमनस-नामक वक्षस्कार
पर्वत का एक शिखर (ठा ७) । २ देव-
विमान-विशेष (सम १२) । ३ रुचक पर्वत
का एक शिखर (ठा ८) । ४ कौअई छी
[कौअई] लता-विशेष (कुमा) । ५ तिलय
न [तिलक] इस नाम का विद्याधरो का
एक नगर (दक) । ६ स्थल न [स्थल] स्व-
नाम ख्यात एक नगर (दस) । ७ वल्लणाग न
[वल्लणक] चौरासी तीर्थों मे एक तीर्थ का

नाम (राज) । ८ सेल पुं [शैल] मेरु-
पर्वत (कप्प) ।
कण्ठणग पु [काङ्कणग] १ पर्वत-विशेष
(सम ७०) । २ काङ्कणक पर्वत का निवासी
देव (जीव ३) ।
कण्ठणा छी [कङ्कणा] स्वनाम ख्यात एक
छी (पएण १, ४) ।
कण्ठणार पु [कङ्कणार] वृक्ष-विशेष (पउम
५३, ७६, कुमा) ।
कण्ठणिया छी [काङ्कणिका] रुद्राक्ष माला
(श्रोप) ।
कण्ठा (पै) देखो कण्ठा (प्राप्र) ।
कण्ठी } छी [काङ्क्षि, कङ्क्षी] १ स्वनाम-ख्यात
कण्ठी } एक देश (कुमा) । २ कटी-मेखला,
कमर का आभूषण (पाअ) । ३ स्वनाम-ख्यात
एक नगर (सुपा ४०६) ।
कण्ठी छी [दे] मुशल के मुँह मे रक्खी जाती
सोहे की एक बलयाकार चीज, सामी या साम
(दे २, १) ।
कण्ठीरय न [दे] पुष्प-विशेष (वजा १०८) ।
कण्ठीरय न [काङ्क्षीरत] सुरत-विशेष (वजा
१०८) ।
कण्ठु } पु [कण्ठुक] १ छी का स्तनाच्छा-
कण्ठुअ } दक वल्ल, चोली (पउम ६, ११,
पाअ) । २ सर्प-स्वक्, साप की कँचली, कँचुली
(विसे २५१७) । ३ वर्म, कवच (भग ६, ३३) ।
४ वृक्ष-विशेष (हे १, २५, ३०) । ५ वल्ल,
कण्ठु, 'तो उज्जिअण लज्जा (लज्ज), श्रोहवइ
कण्ठुय सरीराओ' (पउम ३४, १५) ।
कण्ठुइ पु [कण्ठुकिन्] १ अन्त पुर का प्रती-
हार, चपरासी (एणाया १, १, पउम ८, ३६,
सुर २, १०६) । २ साँप (विसे २५१७) ।
३ यव, जव । ४ चरणक, चना । ५ जुआर,
अगहन में होनेवाला एक प्रकार का अन्न,
जोन्हरी । ६ वि जिसने कवच धारण किया
हो वह (हे ४, २६३) ।
कण्ठुइअ वि [कण्ठुकिन्] कण्ठुकवाला (कुमा,
विपा १, २) ।
कण्ठुइज्ज पु [कण्ठुकीय] अन्त पुर का प्रती-
हार (भग ११, ११) ।
कण्ठुइज्जत वि [कण्ठुकायमान] कण्ठुक की
तरह आचरण करता, 'रोमचकण्ठुइज्जत-
सव्वगतो' (सुपा १८१) ।

१५, २०२, दे २, ५४, अणु, कप्प, औप) ।
५ कलह, भगडा (पड्) ।

कमल पुन [कमल] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२) । णअण पु [नयन] विष्णु, नारायण (समु १५२) ।

कमल न [कमल] १ कमल, पद्म, अरविन्द, (कप्प, कुमा, प्रासू ७१) । २ कमलाख्य इन्द्राणी का सिंहासन । ३ सख्या विशेष, 'कमलाग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (जो २) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) । ५ पु कमलाख्य इन्द्राणी के पूर्व जन्म का पिता (गाया २) । ६ श्रेष्ठि-विशेष (सुपा २७५) । ७ पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, अन्त्य अक्षर जिसमे गुरु हो वह गण (पिंग) । ८ एकजात का चावल, कलम (प्राप्त) । कख पु [क्ष] इस नाम का एक यक्ष (सण) । जय न [जय] विद्याधरो का एक नगर (इक) । जोगिण पु [योगि] ब्रह्मा, विधाता (प्राप्त) । पुर न [पुर] विद्याधरो का एक नगर (इक) । पपभा स्त्री [प्रभा] १ काल-नामक पिशाचेन्द्र की अग्र-महिषी (ठा ४, १) । २ 'ज्ञाता धर्मकथा' सूत्र का एक अध्ययन (गाया २) । बन्धु पु [बन्धु] १ सूर्य, रवि (पउम ७०, ६२) । २ इस नाम का एक राजा (पउम २२, ६८) । माला स्त्री [माला] पोतनपुर नगर के राजा आनन्द की एक रानी, भगवान् अजितनाथ की मातामही—दादी (पउम ५, ५२) । रय पु [रजस्] कमल का पराग (प्राप्त) । वडिसय न [वतंसक] कमलानामक इन्द्राणी का प्रासाद (गाया २) । सिरी स्त्री [श्री] कमलानामक इन्द्राणी की पूर्व जन्म की माता का नाम (गाया २) । सुदरी स्त्री [सुन्दरी] इस नाम की एक रानी (उप ७२८ टी) । सेणा स्त्री [सेना] एक राज-पुत्री (महा) । अर, गार पु [कर] १ कमलो का समूह । २ सरोवर, हृद वगैरह जलाशय (से १, २६, कप्प) । पीड, मेल पु [पीड] भरत चक्रवर्ती का अश्व-रत्न (ज ३, पि ६२) । सण पु [सन] ब्रह्मा, विधाता (प्राप्त, दे ७, ६२) ।

कमलग न [कमलाङ्ग] सख्या विशेष, चौरासी लाख महापद की संख्या (जो २) । कमला स्त्री [दे] हरिणी, मृगी (प्राप्त) । कमला स्त्री [कमला] १ लक्ष्मी (प्राप्त, सुपा २७५) । २ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ६) । ३ काल नामक पिशाचेन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी विशेष (ठा ४, १) । ४ 'ज्ञाता धर्मकथा' सूत्र का एक अध्ययन (गाया २) । ५ छन्द-विशेष (पिंग) । अर पु [कर] घनाब्ज, घनी (से १, २६) । कमलिणी स्त्री [कमलिनी] पद्मिनी, कमल का गाछ (प्राप्त) । कमलुब्धव पु [कमलोद्भव] ब्रह्मा (त्रि ८२) । कमव } अक [स्वप्] सोना, सो जाना । कमवस } कमवड (पड्) । कमवसइ (हि ४, १४६, कुमा) । कमसो अ [कमश] क्रम से, एक-एक करके (सुर १, ११६) । कमिअ वि [दे] उपसर्पित, पास आया हुआ (दे २, ३) । कमिय वि [क्रान्त] उल्लिखित (दस २, ५) । कमेलग } पुष्पी [क्रमेलक] उट्ट, ऊँट (प्राप्त, कमेलय } उप १०३१ टी, कर् ३३) । जी गी (उप १०३१ टी) । वम्म सक [कृ] हजामत करना, क्षौर-कर्म करना । कम्मइ (हे ४, ७२, पड्) । वक वम्मत (कुमा) । कम्म सक [भुज्] भोजन करना । कम्मइ (पड्) । कम्मइ (हे ४, ११०) । कम्म देखो कम = कम् । कम्म पुन [कम्मन्] १ जीव द्वारा ग्रहण किया जाता अत्यन्त सूक्ष्म पुद्गल (ठा ४, ४, कम्म १, १) । २ काम, क्रिया, करनी, व्यापार (ठा १, आचा), 'कम्मा णाणफला' (पि १७२) । ३ जो किया जाय वह । ४ व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेष (विसे २०६६, ३४२०) । ५ वह स्थान, जहाँ पर चूना वगैरह पकाया जाता है (परह २, ५ - पत्र १२३) । ६ पूर्व-कृति, भाग्य, 'कम्मत्ता दुग्मगा चेव' (सूअ १, ३, १, आचा (पड्) । ७ कामंण शरीर । ८ कामंण-शरीर नामकर्म, कर्म-विशेष (कम्म २, २१) । कर वि [कर] नौकर, चाकर (आचा) । देखो गार ।

करण न [करण] कर्म विषयक वचन, जीव-पराक्रम-विशेष (भग ६, १) । कार वि [कार] नौकर (पउम १७, ७) । किच्चिस वि [किच्चिप] कर्म चाण्डाल, खराब काम करनेवाला (उत्त ३) । कख पु [स्कन्ध] कर्म-पुद्गलो का पिण्ड (कम्म ५) । गर देखो कर (प्राप्त) । गार पु [वार] १ कारीगर, शिल्पी (गाया १, ६) । देखो कर । जोग पु [योग] शास्त्रोक्त अतुष्टान (कम्म) । ड्ढाण न [स्थान] कारखाना (आचा) । ड्ढिइ स्त्री [स्थिति] १ कर्म पुद्गलो का अवस्थान समय (भग ६, ३) । २ वि ससरो जीव (भग १४, ६) । णिसेग पु [निपेक] कर्म-पुद्गलो की रचना-विशेष (भग ६, ३) । धारय पुं [धारय] व्याकरण प्रसिद्ध एक समास (अणु) । परिसाडणा स्त्री [परिशाटना] कर्म-पुद्गलो का जीव-प्रदेशी स पृथक्करण (सूअ १, १) । पुरिस पुं [पुरुष] कर्म-प्रधान पुरुष—१ कारीगर, शिल्पी (सूअ १, ४, १) । २ महारम्भ करने वाले वासुदेव वगैरह राजा लोग (ठा ३, १—पत्र ११३) । प्पवाय न [प्रवाद] जैन ग्रन्थाश-विशेष, आठवाँ पत्र (सप २६) । वध पु [वन्ध] कर्म पुद्गलो का प्राप्ता में लगना, कर्मा से आत्मा का बन्धन (प्राप्त ३) । भूमग वि [भूमिक] कर्म-भूमि म उत्पन्न (परण १) । भूमि स्त्री [भूमि] कर्म-प्रधान भूमि, भरत क्षेत्र वगैरह (जो २३) । भूमिग देखो भूमग (परण २३) । भूमिय वि [भूमिज] कर्म भूमि में उत्पन्न (ठा ३, १—पत्र ११४) । मास पु [मास] श्रावण मास (जो १) । मासग पु [मापक] मान-विशेष, पाँच गुठना, पाँच रत्ती (अणु) । य वि [ज] १ कर्म से उत्पन्न होनेवाला । १ कर्म-पुद्गलो का वन हुआ शरीर-विशेष, कामंण शरीर (ठा २, १, ५, १) । या स्त्री [जा] अन्त्या ने उत्पन्न होनेवाली बुद्धि, अन्त्या (गारि, लेस्सा स्त्री [लेस्या] कर्म द्वारा उत्पन्न जीव का परिणाम (भग १४, ६) । वग्गा स्त्री [वर्गा] कर्म-रूप में उत्पन्न होनेवाला

वपों तक जैनी दीक्षा का पालन कर अन्त मे उमका त्याग कर दिया था (शाया १, १६, ७)।

कंडरीय वि [कण्डरीक] १ अशोभन, अ-मुन्दर । २ अग्रघात (सूअनि १४७, १५३)।

कडलि } स्त्री [कन्दरिका] गुफा, कन्दरा
कडलिजा } (पि ३३३, हे २, ३८, कुमा)।

कडवा स्त्री [कण्डवा] वायु-विशेष (राय)।

कडार सक [उत् + कृ] खुदना, छील-छाल कर ठोक करना । सक्र।

'गूण दुवे इह पश्चावइणो जअम्मि,
जे देहणम्मवणोन्वणदारादवडा ।

एणं थडेइ पढम कुमरीणमग,
कडारिऊण पवडेइ पुणो दुईओ' (कप्प)।

कडावेल्ली स्त्री [काण्डवल्ली] वनस्पति-विशेष (पण १)।

कडिअ वि [कण्डित] साफ-सुथरा किया हुआ (दे १, ११५)।

कडियायण न [कण्डिकायन] वैशाली (विहार) का एक क्षेत्र (भग १५)।

कडिल्ल पु [काण्डिल्ल] १ कारिडल्य-गोन का प्रवर्तक ऋषि-विशेष । २ पुत्री कारिडल्य गोन अय्यन । ३ न गोन-विशेष, जो मारडव्य गोन की एक शाखा है (ठा ७-पत्र ३६०)।

'गण पु [गयन] स्वनाम ध्यात ऋषि-विशेष (चद १०)।

कडु देखो कडू (राज)।

कटु देणो कटु (सूअ १, ५)।

कडुअ मर [कण्डूय] खुजवाना । कडुअइ (हे १, १०१, ७), कटुअए (पि ४६२)।

कटु कडुअत (गा ४६०), कडुअमाण (आमू २८)।

कटुअ पु [कण्डविकु] हलवाई, मिठाई बेचने-पाना, राया चिमेइ कथो 'टुयस्त जल-वत्तणपत्ती ?' (आमम)।

कटुअ } पुं [कण्डुक] गेद (दे ३, ५६,
रडग } राज)।

कटुअ वि [कण्डजु] वाण की तरह गोपा (न ३१७, ना ३१२)।

कटुअ वि [कण्डयक] गुजानेमाना (श्रीप)।

कटुअ व [कण्डयन] १ खुजली, खाज, पामा, रोग विशेष । २ गुजवाना, 'पामाहि-

यस्त जहा, कडुयण दुक्कमेव मूडस्स' (स ५१५, उव २६४ टी: गउड)।

कंडुयय देखो कडुयग, 'अकडुयएहिं' (पएह २, १—पत्र १००)।

कडुरु पु [कण्डुरु] स्वनाम-ध्यात एक राजा, जिसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ जैनी दीक्षा ली थी (पउम ८५, ५)।

कडू स्त्री [कण्डू] १ खुजलाहट, खुजवाना (शाया १, ५)। २ रोग-विशेष, पामा, खाज (शाया १, १३)।

कडूइ स्त्री [कण्डूति] ऊपर देखो (गा ५३२, सुर २, २३)।

कडूइअ न [कण्डूयित] खुजवाना (सूअ १, ३, ३, गा १८१)।

कडूय देखो कडुअ = कण्डूय । कडूयइ (महा)। वक्र कडूयमाण (महा)।

कडूयग वि [कण्डूयक] खुजवानेवाला (ठा ५, १)।

कडूयण देखो कडुयण (उप २५६, सुपा १७६, २२७)।

कडूयय देखो कडूयग (महा)।

कडूर पु [दे] वक्र, वगुना (दे २, ६)।

कडूल वि [कण्डूल] खाजवाला, कण्डूयुक्त (कुमा)।

कत सक [कृत्] १ काटना, छेदना । २ काटना, चरखे से सूता बनाना, 'सल्लं कतति अण्णो' (सूअ १, ८, १०)। कतामि (पिडमा ३५)।

कत वि [कान्त] १ मनोहर, सुन्दर (कुमा)। २ अभिलपित, वाञ्छित (शाया १, १)। ३ पु पति, स्वामी (पाम)। ४ देव विशेष (सुज १६)। ५ न कान्ति, प्रभा (आचा २, ५, १)।

कत वि [कान्त] गत, गुजरा हुआ (प्राप)।

कता स्त्री [कान्ता] १ स्त्री, नारी (सुर ३, १४, सुपा ५७३)। २ रावण की एक पत्नी का नाम (पउम ७४, ११)। ३ एक योग-दृष्टि (राज)।

कतार न [कान्तार] १ अरएय, जगल (पाम)। २ डुए, दूषित । ३ निराश्रय । ४ पागल (कप्प)।

कनार पुन [कान्तार] जल-फलादि-रहित अरएय, 'कतारो' (सम्मत् १६६)।

कति स्त्री [कान्ति] १ तेज, प्रकाश (सुर २, २३६)। २ शोभा, सौन्दर्य (पाम)। ३ इस नाम की रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ११)। ४ अहिंसा (पएह २, १)। ५ इच्छा।

६ चन्द्र की एक कला (राज, विक १०७)।

°पुरी स्त्री [°पुरी] नगरी-विशेष (ती)। °म, °ल्ल वि [°मत्] कान्ति युक्त (आवम, गउड, सुपा ८, १८८)।

कति स्त्री [कान्ति] १ परिवर्तन, फेरफार । २ गमन, गति (नाट—विक ६०)।

कतु पु [दे] काम, कामदेव (दे २, १)।

कथरु } पु [कन्थक] अश्व की एक जाति
कथग } (ठा ४, ३, उत २३), 'जहा से
कथय } कबोयाण आइन्ने कथए सिया'
(उत् ११)।

कथा स्त्री [कन्था] कथड़ी, गुदडी, पुराने वक्र से बना हुआ झोडना (हे १, १८७)।

कथार पुं [कन्थार] वृक्ष विशेष (उप २२० टी)।

कथारिया } स्त्री [कन्थारिका, °री] वृक्ष-
कथारी } विशेष (उप १०३१ टी)। °वण
न [°वन] उजैन के समीप का एक जगल,
जहा अवन्तीसुकुमार-नामक जैन मुनि ने अन-
शन व्रत किया था (आक)।

कथेर पु [कन्थेर] वृक्ष-विशेष (राज)।

कन्थेरी स्त्री [कन्थेरी] कण्टकमय वृक्ष-विशेष (उर ३, २)।

कद अक [कण्डू] काँदना, रोना । कदइ (पि २३१)। भूका कदिसु (पि ५१६)। वक्र कदत (गा ५८४), कण्डमाण (शाया १, १)।

कद वि [दे] १ हड, मजबूत । २ मत्त, उन्मत्त । ३ न स्तरण, आच्छादन, (दे २, ५१)।

कद पु [कण्ड, कण्डित] व्यन्तर देवो की एक जाति (ठा २, ३—पत्र ८५)।

कद पु [कण्ड] १ भूदेदार श्रीर बिना रेरो की जड, जमीकण्ड, सुरल, शकरकण्ड, विलांरीकण्ड, श्रील, गाजर, लहसुन वगैरह (जी ६)। २ मूल, जड (गउड)। ३ छन्द विशेष (पिग)।

कद पु [कण्ड] कान्तिकेय, पडानन (कुमा, हे २, ५, पड)।

पिय पु [°वनमालप्रिय] इस नाम का एक यक्ष (विपा २, १)। °वस्म पु [°वर्मन्] नृप-विशेष, भगवान् विमलनाथ का पिता (सम १५१)। °वीरिय पु [°वीर्य] कांत-वीर्य के पिता का नाम (सूत्र १, ८)।

कय अ [कृन्म] अलम, वस (उवर १४४)। कयगला ली [कृतङ्गला] श्रावस्ती नगरी के समीप की एक नगरी (भग)।

कयत पु [कृतान्त] १ यम, मृत्यु, मरण (सुपा १६६, सुर २, ५)। २ शास्त्र, सिद्धान्त, 'मरणति कय त ज कयतसिद्ध उ सपरहिअ' (सार्ध ११७, सुपा ११६)। ३ रावण का इस नाम एक सुभट (पउम ५६, ३१)। °सुह पु [°मुख] रामचन्द्र के एक सेनापति का नाम (पउम ६४, ६२)। °वयण पु [°वदन] राम का एक सेनापति (पउम ६४, २०)।

क्यध देखो कमध (हे १, १३६, षड्)। कयव देखो कलव (परण १, हे १, २२२)। कयव पु [कदम्ब] समूह, 'अप्पाण पिव सर्व्व जीवकयव च रक्खइ सयावि' (सवोध २०)।

कयबिय वि [कदम्बित] अलकृत, विभूपित (कम्प)।

कयबुअ देखो कलबुअ (कम्प)।

कयग वि [कृतक] प्रयत्न-जन्य (धर्मस २६६, ४१४)।

कयग वि [क्रायक] खरीदनेवाला (वव १ टी)। कयग पु [कनक] १ वृक्ष-विशेष, निर्मली। २ न कतक-फल, निर्मली-फल, पायपसारी, 'जह कयगमजराई जलबुद्धीओ विसोर्हिति' (विसे ५३६ टी)।

कयज्ज वि [कदर्थ] कपूस, कृपण (राज)।

कयड्ढि पु [कपदिन्] इस नाम का एक यक्ष देवता (सुपा ५४२)।

कयण न [कदन] हिंसा मार डालना (हे १, २१७)।

कयत्थ सक [कदर्थ्य] हैरान करना, पीडा करना। कयत्थसे (धम्म ८ टी)। कवक कयत्थिज्जत (स ८)।

कयत्थण न [कदर्थन] हैरानी, हैरान करना, पीडन (सुपा १८०, महा)।

कयत्थणा ली [कदर्थना] ऊपर देखो (स ४७२, सुर १५, १)।

कयत्थिय वि [कदर्थित] हैरान किया हुआ, पीडित (सुपा २२७, महा)।

कयन्न वि [कदन्न] खराब अन्न (धर्मवि १३६)।

कयम वि [कतम] बहुत मे से कौन ? (स ४०२)।

कयर वि [कतर] दो मे से कौन ? (हे ३, ५८)।

कयर पु [करर] ४ वृक्ष-विशेष, करीर, करील (स २५६)। २ न करीर का फल (पभा १५)।

कयल पु [कदल] १ कदली-वृक्ष, केला का गाछ। २ न कदली फल, केला (हे १, १६७)।

कयल न [दे] अलिञ्जर, पानी भरने का बड़ा गगरा, झंझर, मटका (दे २, ४)।

कयलि, °ली ली [कदलि, °ली] केला का गाछ (महा, हे १, २२०)। °समागम पु [°समागम] इस नाम का एक गाँव (श्रावम)। °हर न [°गृह] कदली-स्तम्भ से बनाया हुआ घर (महा, सुर ३, १४, ११६)।

कयल्लय देखो कय = कृत (मुख २, ३)।

कयवर पु [दे] १ कतवार, कूडा, मैला (णाय १, १, सुपा ३८, ८७, स २६४ भत्त ८६, पाअ, सण, पुप्फ ३१, निचू ७)। २ विष्ठा (श्राव १)।

कयवस्सुक्किया ली [दे कचवरोज्जिक्का] कूडा साफ करनेवाली दासी (णाय १, ७—पत्र ११७)।

कयवाउ पु [कुकवाकु] कुकूट, कुकडा, मुर्गा (गउड)।

कयवाय पु [कुकवाक] कुकूट, कुकडा, मुर्गा (पाअ)।

कयसण न [कदशन] खराब भोजन (विवे १३६)।

कयसेहर पु [दे] कुकडा, मुर्गा, 'कयमेहराण सुम्मइ आलावो भत्ति गोसम्मि' (वजा ७२)।

कया अ [कदा] कब, किस समय ? (ठा ३, ४, प्रासू १६६)।

कयाइ अ [कदापि] कभी भी, किसी समय भी (उवा)।

कयाइ } अ [कदाचित्] १ किसी समय, कयाइ } कभी (उवा, वसु): 'अह धनया कयाई' (सुपा ५०६, पि ७)। २ वितक-द्योतक अव्यय, 'नट्टेसि कयाइति' (भग १५)।

कयाण न [कयाणक] बेचने योग्य वस्तु, करियाना (उप पु १२०)।

कयाणग पुन देखो कयाण, 'देव निप्रवा हणण कयाणगे किं न विक्केह' (सिदि ४७८)।

कयार पु [दे] कतवार, कूडा, मैला (दे २, ११, भवि)।

कयावि देखो कयाइ = कदापि (प्रासू १३१)।

कयोग पु [कयोग] नट विशेष, बहुलपिया (बृह ४)।

कर सक [कृ] करना, बनाना। करइ (हे ५, २३४)। भूका कासी, काही, काहीअ, करिसु, करेसु, अकासि, अकासी (हे ५, १६२, कुमा, भग, कम्प)। भवि काहिइ, काही, करिस्सइ, करिहिइ, काहं, काहिमि (हे १, ५, पि ५३३, कुमा)। कर्म कजइ, करीइ, करिजइ (भग, हे ४, २५०)। वक करत, करित, करेत्त, करेमाण (पि ५०६, रयण ७२, से २, १५, सुर २, २४०, उवा)। कवक कजमाण, किरत, कीरमाण (पि ५४७, कुमा; ग २७२, रयण ८६)। सक्क करित्ता, करित्ताण, करिदण, काउ, काऊण, काऊण, कट्टु, करिअ, किच्चा, कियाण (कम्प, दस ३, पड्, कुमा, भग, अमि ४१, सूय १, १, १, श्रौप)। हेक्क काउ, करेत्तए (कुमा, भग ८, २)। क करणिज्ज, करणीअ, करिअव्व, करेअव्व, कायव्व (दव १०, पड्, स २१, प्रासू १४८, कुमा)। प्रयो वरावेइ, करावेइ (पि ५५३, ५५२)।

कर पु [कर] एक महाग्रह (सुज २०)।

कर पु [कर] १ हन्व, हाय (सुर १, ५४ प्रासू ५७)। २ महसूल, चुगी (उज ७६८ टी, सुर १, ५४)। ३ किरण, अयु (ठा ७६८ टी, कुमा)। हायी की सूँउ (कुमा)। ५ करका, गिला वृष्टि, शोला, 'करवड्डामडि-यपक्खउले' (पउम ६६, १५)। °गाह पु [°ग्रह] १ हाय से ग्रहण करना, 'दम

कस न [कास्य] १ घातु-विशेष, कासा । २ वाद्य विशेष । ३ परिमाण विशेष । ४ जल पीने का पात्र, प्याला (हे १, २६, ७०) ।
 °ताल न [ताल] वाद्य-विशेष (जीव ३) ।
 °पत्ती, °पाईं छी [°पात्री] कासा का बना हुआ पात्र-विशेष (कप्प, ठा ६) । °पाय न [°पात्र] कासा का बना हुआ पात्र (दस ६) ।

कसार पु [दे] कसार, एक प्रकार की मिठाई, 'ता करेऊए कसार तालपुडसजुय चेग विसमोयग गोसे उवरौमि एयाए' (म १८७) ।
 कसारी छी [दे] त्रीन्द्रिय शुद्ध जन्तु की एक जाति (जी १८) ।

कसाल पु [कास्याल] वायु-विशेष (हे २, ६२, सुपा ५०) ।

कसाला छी [कसताला, कास्यताला] वाद्य वा एक प्रकार का निर्घोष, ताल (एदि) ।

कसालिया छी [कास्यतालिका] एक प्रकार का वाद्य (सुपा २४२) ।

कसिअ पु [कास्यिक] १ कसेरा, कँसारी, वास्य-कार (हे १, ७०) । २ वाद्य विशेष (सुपा २४२) ।

कसिया छी [कसिका] १ ताल (राया १, १७) । २ वायु-विशेष (आचा २) ।

कसाणि पुत्री [दे] मर्म स्थान, 'अरुस्त विष्कति ककाणयो से' (सूत्र १, ५, २, १५) ।

कउह } देखो कउह = ककुद (पि २०६,
 कउम } हे २, १७४) ।

कउह देखो कउह = ककुद (ठा ५, १, राया १, १७, विपा १, २) । ५ हस्त्रिशा का एक राजा (पउम २२, ६६) ।

कउहा देखो कउहा (पड्) ।

कष पु [कृक] १ उद्वर्तन-द्रव्य, शरीर पर का मैन दूर करने के लिए लगाया जाता द्रव्य (भृष १, ६, नित्र १) । २ न पाप (भग १२ ५) । ३ माया, कपट (सम ७१) ।
 °गरुा न [°गुरुक] माया, कपट (पएह १, २—पत्र २८) ।

कष पुा [कृक] १ चन्दन आदि उद्वर्तन द्रव्य (रा ६, ६४) । २ प्रभूति रोग आदि ने रिया जाता धार-दान । ३ लोघ्र आदि ने

उद्वर्तन (पव २—गाथा ११५) । °कुर्या छी [°कुरका] माया, कपट (पव २) ।

कक पु [कर्क] १ चक्रवर्ती का एक देव-कृत प्रासाद (उत्त १३, १३) । २ राशि-विशेष, कर्क राशि (धर्मवि ६६) ।

ककध पु [कर्कध] ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष (ठा २, ३) ।

ककधु छी [कर्कधु] बैर का वृक्ष (पात्र) ।

ककड पुं [कर्कट] कर्कराशि (विचार १०६) ।

ककड न [कर्कट] १ जलजन्तु-विशेष, कुलीर (पात्र) । २ ककडी, फल-विशेष (पव ४) ।
 ३ हृदय का एक प्रकार का वायु (भग १०, ३) ।

ककडच्छ पु [कर्कटाक्ष] ककडी, खीरा (कप्प) ।

ककडिया } छी [कर्कटिका, °टी] ककडी
 ककडी } (खीरा) का गाछ (उप ६६१) ।

ककणा स्त्री [कर्कना] १ पाप । २ माया (पएह १, २) ।

ककनव पु [दे] गुड बनाते समय की इक्षु-रस की एक अवस्था, इक्षु रस का विकार-विशेष (पिंड २८३) ।

ककर पु [कर्कर] १ ककर, पत्थर (विपा १, २, गउड, सुपा ५९७, प्रासू १६८) । २ वि कठिन, पथ (आचू ४) । ३ कर्कर आवाज वाला (उत्त ७) ।

ककरण्या स्त्री [कर्करणा] १ दोषोद्भावन, दोषोद्भावनगमित प्रलाप (ठा ३, ३—पत्र १४७) ।

ककराइय न [कर्करायित] १ कर्कर की तरह आचरित । २ दोषोच्चारण, दोष-प्रकटन (आव ४) ।

ककस वि [कर्कश] १ कठोर, पथ (पात्र, सुपा ५८, आरा ६४, पउम ३१, ६६) । २ प्रखर, चण्ड । ३ तीव्र, प्रगाढ (विपा १, १) । ४ अनिष्ट, हानि कारक (भग ६, ३३) । ५ निष्ठुर, निर्दय (उवा) । ६ चवा-चवा कर कहा हुआ वचन (आचा २, ४, १) ।

ककस } पु [दे] दध्योदन, करम्ब (दे
 ककसार } ३, १४) ।

ककसेण पु [कर्कसेन] अतीत उत्सर्पिणी-बाल मे उत्पन्न एक स्वनाम ध्यात कुलकर पुरुष (राज) ।

ककालुआ स्त्री [कर्कारुका] १ कूष्माण्ड-वल्ली, कोहडा का गाछ, 'ककालुआ गोलडलि-त्तवेंटा' (मृच्छ ५६) ।

ककिंकड पु [दे] कृकलास, गिरगिट, गुजराती मे 'काकेडो' (दे २, ५) ।

ककि पु [ककिन्] भावप्य मे होनेवाला पाटलिपुत्र का एक राजा (ती) ।

ककि्य न [ककििक] मास (सूत्र १, ११) ।

ककैअण पुन [कर्कैतन] रत्न की एक जाति (कप्प, पउम ३, ७५) ।

ककैअण पुं [कर्कैक] मरिण-विशेष की एक जाति (मृच्छ २०२) ।

कककोड न [कर्कोट] शाक विशेष, ककरैल, ककोडा (राज) । देखो कक-कोडय ।

कककोडई स्त्री [कर्कोटकी] ककोडे का वृक्ष ककरैल का गाछ (पाए १—पत्र ३३) ।

कककोडय न [कर्कोटक] देखो कक-कोड । २ पु अनुवेलन्धर-नामक एक नाग-राज । ३ उसका आवास पर्वत (भग ३, ६, इक) ।

कककोल पु [कककोल] १ वृक्ष-विशेष, शीतल-चीनी के वृक्ष का एक भेद (गउड, स ७१) ।

२ न फल-विशेष, जो सुगंधी होता है (पएह २, ५) । देखो ककोल ।

कककोली स्त्री [कककोली] वृक्ष-विशेष (कुप्र २४६) ।

ककख देखो ककछ = कक्ष (उव, कप्प, सुर १, ८८, पउम ४४, १, पि ३१८, ४२०) ।

ककखग वि [कक्षाग] १ कक्षा-प्राप्त । २ पु कक्षा का केश (तदु ३६) ।

ककखड देखो ककस (सम ४१, ठा १, १० वज्जा ८४, उव) ।

ककखड वि [दे] पीन, पुष्ट (दे २, ११, कप्प, आचा, भवि) ।

ककखडगी स्त्री [दे] सखी, सहेली (दे २, १६) ।

ककखल [दे] देखो कककस (पड्) ।

ककखा देखो ककछा = कक्षा (पात्र, राया १, ८, सुर ११, २२१) ।

ककघाड पु [दे] १ अप्रामाण, चिरचिरा, लटजीरा । २ किलाट, दूष की मलाई (दे २, ५४) ।

ककघायल पुं [दे] किलाट, दूष का विकार, दूष की मलाई (दे २, २२) ।

करपत्त न [करपत्र] करपत्र, क्रकच (विपा १, ६)।
 करभ पु [करभ] ऊँट, उष्ट्र (पएह १, १, गउड)।
 करभी स्त्री [करभी] १ उष्ट्री, स्त्री-ऊँट, ऊँटनी (पिंड)। २ धान्य भरने का बड़ा पात्र (बृह २, कस)। देखो करही।
 करम वि [दे] क्षीण, दुर्बल (दे २, ६, षड्)।
 करमंद पु [करमन्द] फलवाला वृक्ष-विशेष (गउड)।
 करमह पु [करमह] वृक्ष विशेष, करींदा (परएण १—पत्र ३२)।
 करमरी स्त्री [दे] हठ-हठ स्त्री, बाँदी (दे २, १५, पड्, गा ५२७, पात्र)।
 करय देखो करग (उप ७२८ टी, परएण १, कुमा, उवा ७)। ३ पक्षि-विशेष (पएह १, १)।
 करयदी स्त्री [दे] मल्लिका, बेला का गछ (दे २, १८)।
 करयर अक [करकराय] 'कर-कर' आवाज करना। वक्र करयरत (पउम ६४, ३५)।
 कररुह पुं [कररुह] छन्द-विशेष (पिग)।
 करलि } स्त्री [कदलि, °ली] १ पताका।
 करली } २ हरिण की एक जाति। ३ हाथी का एक आभरण (हे १, १२०, कुमा)।
 करव पुन [दे करक] जल-पात्र, पालिकरवाड नीर पाएउ पुच्छिग्रो (सुपा २१४ ६३१)।
 करवदी स्त्री [करमन्दी] लता-विशेष, एक जात का पेड (दे, न, ३५)।
 करवत्तिआ स्त्री [करपात्रिका] जल पात्र-विशेष (आ १२)।
 करवाल पु [करवाल] खड्ग, तलवार (पाम, सुपा ६०)।
 करविया स्त्री [दे करकिमा] पान पात्र-विशेष (सुपा ४८८)।
 करवीर पु [करवीर] वृक्ष विशेष, कनेर का गछ (गउड)।
 करसी [दे] देखो कडसी (हे २, १७४)।
 करह पु [करभ] १ ऊँट, उष्ट्र (पउम ५६, ४४, पात्र, कुमा, सुपा ४२७)। २ सुगन्धी द्रव्य-विशेष (गउड ६६८)।

करहंच न [करहञ्च] छन्द-विशेष (पिग)।
 करहाड पुं [करहाट] वृक्ष विशेष, करहार, शिफा कन्द, मैनफल (गउड)।
 करहाडय पु [करहाटक] १ ऊपर देखो। २ देश-विशेष, 'करहाडयविसए वन्नऊरयसनिवे-सम्मि' (स २५२)।
 करही देखो करभी। ३ इस नाम का एक छन्द (पिग)। °ह्व वि [°रोह] ऊँट सवार, उष्ट्री पर सवारी करने वाला (महा)।
 कराइयी स्त्री [दे] शालमली वृक्ष, सेमर का पेड (दे २, १८)।
 करादल पु [करादल] स्वनाम ख्यात एक राजा (ती ३७)।
 कराल वि [कराल] १ उन्नत, ऊँचा (अनु ५)। २ दन्दुरित, जिसका दंत लम्बा और बाहर निकला हो वह (गउड)। ३ भयानक, भयकर (कम्पू)। ४ फाडनेवाला। ५ विकसित (से १० ४१)। ६ व्यवहित (से ११, ६६)। ७ वि इस नाम का विदेह-देश का राजा (धर्म १)।
 कराल सक [करालय] १ फाडना छिद्र करना। २ विकसित करना। करालेड (से १०, ४१)।
 करालिअ वि [करालित] १ दन्दुरित, लम्बा और बहिर्निगत दंतवाला (से १२, १०)। २ व्यवहित किया हुआ, अन्तरालवाला बनाया हुआ (से ११, ६६)। ३ भयकर बनाया हुआ (कम्पू)।
 करली स्त्री [दे] दतवन, दाँत शुद्ध करने का काष्ठ (दे २, १२)।
 करावण न [कारण] करवाना, बनवाना, निर्माण (सुपा ३३२, धम्म ८ टी)।
 कराविय वि [कारित] कराया हुआ (म ५६४, महा)।
 करि पु [करिन्] हाथी, हस्ती (पाम, प्राप् १६६)। °धरणट्टाण न [°धरणस्थान] हाथी को बाँधने का डोर—रञ्जू, रस्ता (पाम)। °नाह पु [°नाथ] १ ऐरावण, इन्द्र का हाथी। २ उत्तम हस्ती (सुपा १०६)। °वघण न [°वन्धन] हाथी पकड़ने का गर्त (पाम)। °भयर पुं [°भकर] जल हस्ती (पाम)।
 करिअ पु [करिक] एक महाग्रह (सुज २०)।

करिअ } देखो कर = कृ।
 करिअव्व }
 करिआ स्त्री [दे] मदिरा परोसने का पान (दे २, १४)।
 करिएव्वउ } (अप) देखो कायव्व (हे ५,
 करिएव्वउ } ४३८, कुमा, पि २५४)।
 करित देखो कर = कृ।
 करिगिया } स्त्री [करिणी] हस्तिनी, हथिनी
 करिणी } (महा, पउम ८०, ५३, सुपा ४)।
 करिण पु [करिन्] हाथी, हस्ती, 'रे ड्डु करिणाहम । कुजाय । सभतनुवइमहएण' (उप ६ टी)।
 करित्ता }
 करित्ताण } देखो कर = कृ।
 करिट्ठण }
 करिमरी [दे] देखो करमरी (गा ५४, ५५)।
 करिह न [हे] १ वंशाकुर, दाँत का कोपड, रेतीली भूमि में उत्पन्न होनेवाला वृक्ष विशेष, जिसे ऊँट खाते हैं (दे २, १०)। २ करीला, तरकारी-विशेष, 'शाणुपुरिसाइकुदुल्लुपसाइस-भियकरिहमसाई' (विसे २६३)। ३ अट्टु, कन्दल (अनु)। ४ पु करील वृक्ष, करील (पड्)। ५ वि वयाकुर के समान, 'हहा ते वेय करिल्लपिययमावाहुसयणदुल्ललिय' (गउड)।
 करिस देखो कड्ड = कृप। करिसइ (हे ५, १८७)। वक्र करिसत (सुर १, २३०)। सक्र करिसित्ता (पि ५८२)।
 करिस पु [कर्प] १ आकर्षण, लोचान। २ विलेखन, खेला-करण। ३ मान विशेष, पत का चौथा हिस्सा (जी १)।
 करिस देखो करीस (हे १, १०१, पात्र)।
 करिसग वि [कर्पक] खेती करनेवाला, कृषि-वल (उत्त ३, आवम)।
 करिसण न [कर्पण] १ लोचान, आकर्षण। २ चासना, खेती करना। ३ कृषि, खेती (पएह १, १)।
 करिसय देखो करिसग (सुपा २, २६०, सुर २, ७७)।
 करिसावण पुन [कार्पावण] सिक्का विशेष (विने ५०६, अणु)।
 करिसिद (जी) वि [कर्पित] १ आकर्षित। २ चासा हुआ, खेती किया हुआ (हेम ३३१)।

कच्छुल पु [कच्छुल] गुल्म-विशेष (परण १—पत्र ३२) ।

कच्छुल पु [कच्छुल] स्वनाम ख्यात एक नारद मुनि (शाया १, १६) ।

कच्छु देखो कच्छु (प्रासू ७२) ।

कच्छोटी स्त्री [दे] कच्छौटी, लगेटी (रभा—टि) ।

कज्ज वि [कार्य] १ जो किया जाय वह । २ करते योग्य । ३ जो किया जा सके (हे २, २४) । ४ न प्रयोजन, उद्देश्य, 'न य सहेइ सत्तज्ज' (प्रासू २७, कप्प) । ५ कारण, हेतु (वज २) । ६ काम, काज,

'अतह परिचित्तज्जइ,

सहरिसनहुज्जएण हियएण ।

परिएमइ अन्नह च्चिय,

कज्जजारभो विहिवसेण'

(सुर ४, १६) ।

'जाण वि [°ज्ज] कार्य को जाननेवाला (उप ६४८) । 'सेण पु [°सेण] अतीत उत्सर्पिणी-गत में उत्पन्न स्वनाम ख्यात एक कुलकर-पुण्य (मम १५०) ।

कज्जाओ (ओ) स्त्री [कन्यका] कन्या, कुमारी (प्राह ८७) ।

कज्जउड पु [दे] अन्न (दे २, १७) ।

कज्जमाण वि [क्रियमाण] जो किया जाता है वह, 'कज्ज च कज्जमाण च आगमिन्स च पाण' (सूत्र १, ८) ।

कज्जल न [कज्जल] १ काजल, मसी । २ पत्रन, चुरमा (कुमा) । °पमा स्त्री [प्रभा] सुदर्शना नामक जम्बू-वृक्ष की उत्तर दिशा में स्थित एक पुष्करिणी (जीव ३) ।

कज्जलउअ वि [कज्जलित] १ काजलवाना । २ श्याम, टण्ड (पात्र) ।

कज्जलग्गी स्त्री [कज्जलाग्गी] कज्जल-गृह, गीग ने ऊपर रखा जाता पात्र, जिसमें काजल रक्ता रोना है, तजरीटी (अत, शाया १, १—पत्र ६) ।

कज्जना स्त्री [कज्जला] उन नाम की एक पुष्करिणी (रत्) ।

कज्जगय पत्त [कज्जु] कज्जना, कूटना, 'माग्गी मग्गा । एय ते शावाए उदय

उत्तिणेण आसवइ, उवखरि वा शावा कज्जलावेइ' (आचा २, ३, १, १६) । वक कज्जलावेमाण (आचा २, ३, १, १६) ।

कज्जलिअ देखो कज्जलइअ (से २, ३६, गउड) ।

कज्जव } पु [दे] १ विद्या, मैला । २ तृण कज्जवय } वगैरह का सप्पह, कूडा, कतवार (दे २, ११, उप १७६, ५६३, स २६४, दे ६, ५६, अणु) ।

कज्जिय वि [कार्यिक] कार्यार्थी, प्रयोजनार्थी (वव ३) ।

कज्जोवग पु [कार्योपग] अठासी महाग्रहो मे एक ग्रह का नाम (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

कज्जाल न [दे] सेवाल, एक प्रकार की घास, जो जलाशयो मे लगती है (दे २, ८) ।

कटारि (अप) अ [कटारे] इन अर्थों का श्योतक अव्यय—१ आश्चर्य, विस्मय, 'कटारि थणतरु मुद्धइहे, जे मणु विच्चिन माइ' (हे ४, ३५०) । २ प्रशंसा, श्लाघा, 'कटारि भासु सुविसालु, कटारि मुहकमल पसन्निम' (धम्म ११ टी) ।

कटारि (अप) न [दे] छुरी, क्षुरिका (हे ४, ४४५) ।

कट्ट सक [कट्ट] काटना, छेदना । कट्टइ (भवि) । कट्टि कट्टि, कट्टिवि, कट्टिअ (रभा, भवि, पिग) ।

कट्ट वि [कट्ट] काटा हुआ, छिल (उप १८०) ।

कट्ट न [कट्ट] १ दु ख । २ वि कट्ट-कारक, कट्टवाई (पिग) ।

कट्टर पुन [दे] कडी मे डाला हुआ घी का बडा, साय-विशेष (पिड ६३७) ।

कट्टर न [दे] खरड, अय, टुकडा, 'से जहा चित्तयवट्टरे इ वा वियाणपट्टे इ वा' (अनु) । कट्टराय न [दे] छुरी, शस्त्र-विशेष (स १४३) । कट्टारी स्त्री [दे] क्षुरिका, छुरी (दे २, ४) । कट्टिअ वि [कट्टित्त] काटा हुआ, छेदित (पिग) ।

कट्टु नि [कट्टु] कता, करनेवाला (पड) ।

कट्टु प [कट्टु] करने (शाया १, ५, कप्प भग) ।

कट्टोरग पु [दे] कटोरा, प्याला, पात्र-विशेष, 'तमो पारोहि करोडगा कट्टोरगा मकुआ सिप्पामो य ठविज्जति' (निचू १) ।

कट्ट न [कट्ट] १ दु ख, पीडा, व्यथा (कुमा) । २ पाप । ३ वि कट्ट-दायक, पीडा-कारक (हे २, ३४, ६०) । °हर न [गृह] कठ-घरा, काठ की बनी हुई चारदीवारी (सुर २, १८२) ।

कट्ट न [काठ] काठ, लकडी (कुमा, सुपा ३५४) । २ पु राजगृह नगर का निवासी एक स्वनाम-ख्यात श्रेणी (आवम) । °कम्मत्त न [कर्मन्त] लकडी का कारखाना (आचा २, २) । °करण न [करण] श्यामक-नामक गृहस्थ के एक खेत का नाम (कप्प) । °कार पु [कार] काठ-कर्म से जोविका चलानेवाला (अणु) । °कोलव पु [कोलम्ब] वृक्ष की शाखा के नीचे झुकता हुआ अग्र-भाग (अनु) । °खाय पु [खाद] कीट-विशेष, घुण (ठा ४) । °दल न [दल] रहर की दाल (राज) । °पाउया स्त्री [पादुका] काठ का चूता, खडाँ (अनु ४) । °पुत्तलिया स्त्री [पुत्तलिका] कठपुतली (अणु) । °पेज्जा स्त्री [पेया] १ मूँग वगैरह का क्वाथ । २ घृत से तली हुई तरण्डुल की राव (उवा) । °महु न [मधु] पुष्प-भकरन्द (कुमा) । °मूल न [मूल] द्विदल धान्य, जिसका दो टुकडा समान होता है ऐसा चना, मूँग आदि अन्न (वृह १) । °हार पु [हार] श्रोत्रिय जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विशेष (जीव १) । °हारय पु [हारक] कठहरा, लकडहारा (सुपा ३८५) ।

कट्ट वि [कट्ट] विलिखित, चासा हुआ, 'खोर-दुमहेट्टपकट्टोल्ला इधणे य मीसो य' (श्रीघ ३३६) ।

कट्टण न [कर्पण] आकर्षण, खींचाव (गउड) ।

कट्टहार पु [काठहार] कठहरा, लकडहारा, काठवाहक (कुप्र १०४) ।

कट्टा स्त्री [काट्टा] १ दिशा (सम ८८) । २ हृद, सीमा, 'कवडस्म अहो परा कट्टा' (आ १६) । ३ काल का एक परिमाण, अठारह निमेष (तट्ट) । ४ प्रकर्ष (सुज ६) ।

आवाज (भग ९, ३३, राय) । ३ चूना आदि से मिश्रित जल (विपा १, ६) ।

कलकल अक [कलकलाय] 'कल कल' आवाज करना । वक्त्र कलकलत, कलकलित, कलकलेत, कलकलमाण (पणह १, १, ३, औप) ।

कलकलिअ न [कलकलित] कोलाहल करना (दे ६, ३६) ।

कलकलिअ वि [कलकलित] कलकल शब्द से युक्त (सिरि ६६४) ।

कलकल देखो कलकल = कटाक्ष (गा ७०२) ।

कलचुलि पु [कलचुलि] १ क्षत्रिय विशेष । २ इस नाम का एक क्षत्रिय-वंश (पिग) ।

कलण देखो करण, 'तोसुवि कलणोसु हासु सुहसकपो' (अच्छु ८२) ।

कलण न [कलन] १ शब्द, आवाज । २ सव्यान, गिनती (विसे २०२८) । ३ धारण करना (सुपा २५) । ४ जानना (सुपा १६) । ५ प्राप्ति, ग्रहण, 'जुत्त वा सयलकलाकलण रयणायरसुअस्स' (आ १६) ।

कलणा बी [कलना] १ कृति, करण, 'जुरण कदप्प-दप्प णिहुवणकलणारुंदलिल्लं कुणता' (कप्पू) । २ धारण करना, लगाना, 'मज्झइहे सिरिखडपककलणा' (कप्पू) ।

कलणजि देखो कल = कलय ।

कलत्त न [कलत्र] बी, भार्या (प्रासू ७६) ।

कलाधोय देखो कलहोय (औप) ।

कलभ पुत्री [कलभ] १ हाथी का बच्चा (याया १, १) । २ बच्चा, बालक, 'उवमासु अपजत्तेभकलभदतावहासमूखुअ' (हे १, ७) ।

कलभिआ स्त्री [कलभिआ] हाथी का स्त्री-बच्चा (याया १, १—पत्र ६३) ।

कलभ पु [दे] कलभ १ चोर, तस्कर (दे २, १०, पात्र, आचा) । २ एक प्रकार का उत्तम चावल (उवा ज २, पात्र) ।

कलमल पु [कलमल] १ पेट का मल (ठा ३, ३) । २ वि दुर्गन्धि, दुर्गन्धवाला (उप ८३३) ।

कलमल पुन [दे] १ मदन-वेदन (सक्ष ८७) । २ कपन, थरपराहट, घृणा, 'अमुद्वैप अट्टीण सोणियकिमिजालपूइमसाण । नामपि चित्तिय खलु कलमलय जणइ हियम्मि' (मन ३३) । कलय देखो कालय (हे १, ६७) ।

कलय पु [दे] १ अर्जुन वृक्ष । २ सोनार, सुवर्णकार (दे २, ५४) ।

कलय पुं [कलाद] सोनार, सुवर्णकार (बड्) । कलयदि वि [दे] १ प्रसिद्ध, विख्यात । २ स्त्री वृक्ष विशेष, पाडरी, पाढल (दे २, ५८) । कलयज्जल न [दे] श्रोत्र-लेप, होठ पर लगाया जाता लेप-विशेष (भवि) ।

कलयल देखो कलकल (हे २, २२०, पात्र, गा ५३५) ।

कलयलिर वि [कलकलायित्] कलकल करने-वाला (वजा ६६) ।

कलरुहाणी बी [कलरुहाणी] इस नाम का छन्द (पिग) ।

कलल न [कलल] १ वीर्य और शोणित का समुदाय, 'पाइज्जति रडता सुतत्तत्तुतवसनिम कलल' (पउम ११८, ८), 'वसकललसंभ-सोणिय—' (पउम ३६, ५६) । २ गर्भ-वेष्टन चर्म । ३ गर्भ के अवयव रूप रेत विकार (गउड) । ४ काँदो, कीचड, कदम (गउड) ।

कललिय वि [कललित] कदमित कीचवाला किया हुआ, 'अएणोएणकलहविन्नलियकेसरकी-लालकललियदारा' (गउड) ।

कलविंण पु [कलविंण] पक्षि विशेष, चटक, गौरिया पक्षी, गौरैया (पात्र गउड) ।

कलवू स्त्री [दे] तुम्बी पात्र (दे २, १२, बड्) ।

कलस पु [कलश] १ कलश, घडा, (उवा, याया १, १) । २ स्कन्धक छन्द का एक भेद, छन्द-विशेष (पिग) ।

कलस पुन [कलरा] १ एक देव विमान । (देवेन्द्र १४०) । २ वाद्य-विशेष (राय ५० टी) ।

कलसिया स्त्री [कलसिका] १ छोटा घडा (अणु) । २ वाद्य विशेष (आचू १) ।

कलह पु [कलह] क्लेश, भगडा (उव, औप) ।

कलह देखो कलभ (उव, पउम ७८, २८) ।

कलह न [दे] तलवार की म्यान (दे २, ५, पात्र) ।

कलह अक [कलहाय] भगडा करना, लडाई करना । वक्त्र कलहत्त, कलहमाण (पउम २८, ४, सुपा ११, २३३, ५४६) ।

कलहण न [कलहन] भगडा करना (उव) ।

कलहाअ देखो कलह = कलहाय । कलहापदि (शौ) (नाट) । वक्त्र कलहाअत (गा ६०) ।

कलहाइअ वि [कलहायित्] कलहावा, भगडाहोर (पात्र) ।

कलहि वि [कलहिन्] भगडाहोर (दे ५, ५४) ।

कलहोय न [कलधौत] १ सुवर्ण, सोनार (सण) । २ चाँदो, रजत (गउड, पणह १, ४, पात्र) ।

कला स्त्री [कला] १ अश, भाग, मात्रा (अनु ४) । २ समय का सूक्ष्म भाग (विसे २०२८) । ३ चन्द्रमा का सोलहवा हिस्सा (प्रासू ६५) । ४ कला, विद्या, विज्ञान (कण, राय, प्रासू ११२) । पुरुष योग्य कला के मुख्य बहतर और स्त्री-योग्य कला के मुख्य चौसठ भेद हैं, 'वावत्तरी क्का' (अणु), 'वावत्तरिकलापडियावि पुरिसा' (प्रासू १२६), 'चउसट्टिकलापडिया' (याया १, ३) । पुरुष कला ये हैं—१ लिपि ज्ञान । २ अकारणित । ३ विश्व कला । ४ नाट्यकला । ५ गान, गाना । ६ वाद्य बजाना । ७ स्वर गत (पड्ड, उपम वगैरह स्वरों का ज्ञान) । ८ पुष्कर गत (गुदग, गुरजादि विशेष वाद्य का ज्ञान) । ९ समताल (संगीत के ताल का ज्ञान) । १० द्यूत कला । ११ जनवाद (लोगों के साथ आलाप सलाप करने की विधि) । १२ पासे का खेल । १३ अष्टापद (चौपाद खेलने की रीति) । १४ शौत्र कवित्व । १५ दक-भुत्तिका (वृक्षरण विद्या) । १६ पाक कला । १७ पान विधि (जलपान के गुण दोष का ज्ञान) । १८ मन्त्र विधि (वस्त्र की सजावट की रीति) । १९ विलेपन विधि । २० शयन-विधि । २१ आर्या (छन्द विशेष) बनाने की रीति । २२ अट्टेलिण (विनोद क लिए पहिलिया—गूढाशय पत्र) । २३ भागविका (छन्द विशेष) । २४ गाय (छन्द विशेष) । २५ गीति (छन्द विशेष) । २६ श्लोक (अनुष्टुप् छन्द) । २७ हिरण्य युक्ति (चादो के आनुपण की ययाम्मान योजना) । २८ सुवर्ण-युक्ति । २९ नए-युक्ति (सुगन्धि पदार्थ बनाने की रीति) । ३० आभरण-निधि (आभूषणों की सजावट) । ३१ तरणी परिकर्म (स्त्री का सुन्दर बनाने

कडमड पुंन [दे] उद्वेग (सन्नि ४७) ।

कडय न [कटक] ऊब आदि की यष्टि (आचा २, १०, २) ।

कडय देखो कडग (सुर १, १६३, पात्र, गड, महा, सुपा १६२, दे ५, ३३) । ६ लरकर, सैन्य (ठा ६) । १० पु काशी देश का एक राजा (महा) । १० वई स्त्री [वती] राजा कटक की एक कन्या (महा) ।

कडयड पु [कडकड] कड कड आवाज, 'कथइ खरपवहाणयकडम(?) यडभजतडुम गहण' (पञ्च ६४, ४४) ।

कडयडिय वि [दे] परावृत्तित, फिराया हुआ, घुगया हुआ, 'न कुम्मह कडयडिय निठ्ठि नं पणिहव गिरिवर' (सुपा १७६) ।

कडसम्मरा स्त्री [दे] वरा शलाका, वंश की मलाई (विपा १, ६) ।

कडसार न [कटसार] मुनि का एक उपकरण, आसन, 'न वि लेइ जिणा पिछी (?) छि) । नवि कुडी (?) डि) कक्कल च कडसार' (विचार १२८) ।

कडसी स्त्री [दे] श्मशान, मसान (दे २, ६) । कडहू पु [कटभू] वृक्ष-विशेष (बृह १) । कडा स्त्री [दे] कडी, सिकडी, जजीर की लडी, 'नियडववाडकडाण खडस्वमो निसुरिणो ततो' (सुपा ४१४) ।

कडार न [दे] नारिखेल, नरियर (दे २, १०) ।

कडार पु [कडार] १ वर्ण-विशेष, तामडा वर्ण, भूरा रंग । २ वि कपिल वर्णवाला, भूरा रंग का, मटमैला रंग का (पात्र, रयण ७७, सुपा ३३, ६२) ।

कडाली स्त्री [दे] कटालिका] घोड़े के मुँह पर बाजने का एक उपकरण (अनु ६) ।

कडाह पु [कडाह] १ कडाह, लोहे का पात्र, लोहे की बडी कडाही (अनु ६, नाट—मृत्त ३) । २ वृत्त विशेष (पञ्च १३, ७६) । ३ पात्र की हठी, शरीर का एक अवयव (परण १) ।

कडाहपण्ठियअ न [दे] दोनों पारनों का पण्ठिया, पारनों की घुमाना-फिराना (दे २, २५) ।

कडि गो [कटि] १ नगर हठी (विपा १, २, मृ ६) । २ बुझादि का नन्य भाग

(ज १) । १ तड न [तट] १ कटी-तट ।

२ मध्य भाग (राय) । ३ पट्टय न [पट्टक]

घोती, वस्त्र-विशेष (बृह ४) । ४ पत्त न [पत्र] १ सर्गादि वृक्ष की पत्ती । २ पतली

कमर (अनु ५) । ५ यल न [तल] कटी-प्रदेश (भवि) । ६ ल न [टीय] देखो कडिल्ल

(दे) ना दूसरा अर्थ । ७ वट्टी स्त्री [पट्टी]

कमर का पट्टा, कमर-पट्टा (सुपा ३३१) ।

८ वत्थ न [वत्थ] घोती, कमर में पहनने का कपडा (दे २, १७) । ९ सुत्त न [सूत्र]

कमर का आभूषण, मेखला (सम १८३, कप्पु) । १० हत्थ पुं [हस्त] कमर पर रखा हुआ हाथ (दे २, १७) ।

कडि वि [कटिन्] चटाईवाला (अणु १४४) ।

कडिअ वि [कटित] १ कट—चटाई से आच्छादित (कप्पु) । २ कट से संस्कृत

(आचा २, २, १) । ३ एक दूसरे में मिला हुआ, 'अणकडियकडिच्छाए' (श्रौप) ।

कडिअ वि [दे] प्रीणित, खुशी किया हुआ (पड) ।

कडिखम पु [दे] १ कमर पर रखा हुआ हाथ (पात्र, दे २, १७) । २ कमर में किया

हुआ आघात (दे, २, १७) ।

कडिण पुन [दे] तृण विशेष (सूत्र २, २, ७) ।

कडिअ देखो कालत्त (राया १, १ टी—पन ६) ।

कडिभिल्ल न [दे] शरीर के एक भाग में होनेवाला कुष्ठ विशेष । (बृह ३) ।

कडिल्ल वि [दे] १ छिद्र-रहित, निरिच्छद्र (दे २, ५२, पड) । २ न कटी-वस्त्र,

कमर में पहनने का वस्त्र, घोती वगैरह (दे २, ५२, पात्र, पड, सुपा १५२, कप्पु,

भवि, विसे २६००) । ३ वन, जंगल, अटवी, ससारभवकडिल्ले, सजोगवियोगसोगतरुहणु ।

कुपहणणट्टाण तुम, सत्याहो नाह । उप्पन्नो' (पञ्च २, ४५, वव २, दे २, ५२) । ४ वि गहन, निविड, सान्द्र, 'भिल्लिभिल्लायडकडिल्ल'

(उप १०३१ टी, दे २, ५२, पड) । ५ आशीर्वाद, प्रासीमा । ६ पु दोवारिक, प्रतीहार ।

७ विपन्न, शत्रु, दुश्मन (दे २, ५२, पड) । ८ कटाह, लोहे का बडा पात्र (श्रोध ६२) ।

९ उपकरण-निशेष (दस ६) ।

कडी देखो कडि (सुपा २२६) ।

कडु } पुं [कटुक] १ कडुआ, तिक्त, रस-कडुआ } विशेष (ठा १) । २ वि तीता, तिक्त

रस-वाला (से १, ६१, कुमा) । ३ अनिष्ट (परह २, ५) । ४ दाहण, भयकर (परह १, १) । ५ पर्व, निष्ठुर (नाट-रत्ना ६६) ।

६ स्त्री वनस्पति-विशेष, कुटकी (हे २, १५५) ।

कडुअ (शौ)अ [कृत्वा] करके (हे २, २७२) ।

कडुआल पु [दे] घटा, घाट (दे २, ५७) । २ छोटी मछली (दे २, ५७, पात्र) ।

कडुइय वि [कटुकित] १ कडुआ किया हुआ । २ दूषित (गडड) ।

कडुइया स्त्री [कटुकी] वल्ली-विशेष, कुटकी (परण १) ।

कडुच्छय } पुत्री [दे] देखो कडुच्छु, कडुच्छु } 'धूवकडुच्छयहत्था' (सुपा ५१,

कडुच्छुय } पात्र, निर ३, १, धम्म) ।

कडुयाविय वि [दे] १ प्रहृत, जिस पर प्रहार किया गया हो वह (उप पृ ६५) । २ व्यथित,

पीडित, 'सा य (चोरवाडी) कुमारपहारकडुयाविया भग्गा परम्मुहा कया' (महा) ।

३ हराया हुआ, परामृत । ४ भारी विपद् में फँसा हुआ (भवि) ।

कडुइड (शौ) वि [कटुकृत] कटुक किया हुआ (नाट) ।

कडेवर न [कलेवर] शरीर, देह (राय, हे ४, ३६५) ।

कडड सक [कूप] १ खीचना । २ चास करना । ३ रेखा करना । ४ पढना । ५ उच्चारण करना । कडडइ (हे ४, १८७) ।

वक्क कडडहत, कडडमाण (गा ६८७, महा) । कवक्क कडडिज्जत, कडडिज्जमाण (से ५, २६, ६, ३६, परह १, ३) । सक कडडिज्जण, कडडेउ, कडडिज्जु, कडडिज्जय (महा), 'कडडहेतु, नमोक्कार' (पचव), कडडिज्ज (पि ५७७) । क कडडेयव्व (सुपा २३६) ।

कडड पु [कर्प] खीचाव, आकर्षण (उत्त १६) ।

कडडण न [कर्षण] १ खीचाव, आकर्षण,

(ठा ३, ३, दे ८; ६५) । ७ वि. दक्ष, चतुर (दे ८, ६५) ।

कल्यवत्त पु [कल्यवत्त] कलेवा, प्रातर्भोजन, जल-पान (स्वप्न ६०, नाट) ।

कल्यपाल पु [कल्यपाल] कलवार, शराव बेचनेवाला (मोह ६२) ।

कल्यवि अ वि [दे] १ तीमित, आद्रित । २ विस्तारित, फेलाया हुआ (दे २, १८) ।

कल्यो [दे] मद्य, दाह (दे २, २) ।

कल्योहल्लिं अ [कल्योहल्लिं] १ प्रतिदिन, कल्योहल्लिं हर रोज (विपा १, ३, शाया १, १८) । २ प्रति प्रभात, रोज सुबह (उवा, प्राप) ।

कल्यण न [कल्यण] सुवर्ण (सिरि ३७३) ।

कल्यण पुन [कल्यण] १ सुख, मगल, क्षेम, 'गुणद्वारापरिग्रामे सते जीवाणु सयलकल्लाणा' (उप ६००, महा, प्रासू १४६) । २ निर्वाण, मोक्ष (विते ३४४०) । ३ विवाह, लान (वसु) । ४ जिन भगवान् का पूर्व भव से च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान तथा मोक्ष-प्राप्ति रूप अवसर. 'एव महाकल्लाणा सन्वेसि जिण्णाणु होति एणमयेण' (पत्ता ६) । ५ समृद्धि, वैभव (कप्प) । ६ वृक्ष-विशेष (परण १) । ७ तप विशेष (पव) । ८ देश-विशेष । ९ नगर विशेष, 'कल्लायदेसे कल्लायणनयेरे सकरो णाम राया जिण्ण-भत्तो हुत्था' (ती ५१) । १० पुण्य, शुभ कर्म (आवा) । ११ वि हित-कारक, सुख-कारक (जीव ३, उत ३) । १२ कडय न [कृतक] नगर-विशेष (ती) । १३ कारि वि [कारिन्] सुखावह, मगल-कारक (शाया १, १६) ।

कल्यणि वि [कल्यणिन्] कल्याण-प्राप्त (राज) ।

कल्यणी लो [कल्यणी] १ कल्याण करने-वाली लो (गडड) । २ दो वर्ष की बछिया (उत्तर १०३) ।

कल्यल पु [कल्यपाल] कलाल, दाह बेचने-वाला (अयु, आव ६) ।

कल्ये अ [कल्ये] कल दिन, कल को (गा ५०२) ।

कल्लुग पु [कल्लुग] द्वीन्द्रिय जीव विशेष, कीट की एक जाति (जीव ३) ।

कल्लुय पुं [कल्लुय] द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (परण १—पत्र ४४) ।

कल्लुरिया [दे] देखो कुल्लुरिया (राज) । कल्लेउय पुं [दे] कलेवा, प्रातराश (ओष ४६४ टी) ।

कल्लोडय पुं [दे] दमनीय बैल, सड (आचा २, ४, २) ।

कल्लोडिआ [दे] देखो कल्लोडो (नाट) ।

कल्लोल पु [कल्लोल] तरंग, ऊर्ध्व (श्रौफ, प्रासू १२७) ।

कल्लोल वि [दे, कल्लोल] शत्रु, दुरमन (दे २, २) ।

कल्लोलिणी लो [कल्लोलिणी] नदी (कप्पु) ।

कल्लहार न [कल्लहार] सफेद कमल (परण १, दे २, ७६) ।

कल्लि देखो कल्लि (गा ८०२) ।

कल्लोड पुं [दे] बत्सतर बछडा (दे २, ६) । कल्लोडो लो [दे] बत्सतरी, बछिया (दे २, ६) ।

कव अक [कु] आवाज करना, शब्द करना । कवइ (हे ४, २३३) ।

कवइय वि [कवचित] वरतरवाला, वर्मित (पउम ७०, ७१, श्रौप) ।

कवइ देखो कवमध (परह १, ३, महा, गडड) ।

कवग पु [कवर्ग] 'क' से 'ड' तक के पांच अक्षर (धर्मवि १४) ।

कवचिअ देखो कवइय (सिरि १३१६) ।

कवचिया लो [कवचिया] कलाचिका, प्रकोष्ठ (राज) ।

कवचिअ वि [कवचित] पीडित, हेरान किया हुआ (हे १, १२४) ।

कवड न [कवड] माया, छद्म, शास्त्र (पाम, सुर ४, १६१) ।

कवडि देखो कवडि, 'तो भणइ कवडिजमलो अज्जवि त पुच्छमे एय' (सुपा ५४०) ।

कवडु पु [कवड] बडी कौडी, बराटिका (दे ११०, जी १२) ।

कवडि पुं [कवडिन्] १ यज्ञ विशेष (सुपा ५१२) । २ महादेव, शिव (कुमा) ।

कवडिया लो [कवडिका] कौडी, बराटिका (सुपा १४, ५४५) ।

कवण वि [कवण] कौन ? (पउम ७२, ८, कुमा) ।

कवय पुन [कवच] वरं, वस्तर (विपा १, २, पउम २४, ३१, पात्र) ।

कवय न [दे] वनस्पति-विशेष, भूमिच्छत्र (दे २, ३) ।

कवरी लो [कवरी] केश पास, घम्मिल (कुमा, वेणी १८३) ।

कवल सक [कवल्य] ग्रसना, हडप करना । कवलेइ (गडड) । कम कवलजइ (गडड) ।

कवक कवल्लिज्जत (सुपा ७०) । सक कवल्लिज्जण (गडड) ।

कवल पु [कवल] कवल, दास (पव ४, श्रौप) ।

कवलण न [कवलण] ग्रसन, भक्षण (वाप १७०, सुपा ४७४) ।

कवलिअ वि [कवलिन] श्रमित, श्रित (पाम, सुर २, १४६, सुपा १२१, ३१६) ।

कवलिआ लो [दे] ज्ञान वा एक उपकरण (श्राप ८) ।

कवल पु [दे] लोहे का कडाह (सूभ १, ५, १, १५) ।

कवडि } लो [दे] पात्र विशेष, गुड वगेरह
कवडि } पकाने का भाजन, कडाह, बराह-
'उज्जनेण य गिम्हे कालसिलाए कवडिभुवाए'
(सया १२०, विपा १, ३) ।

कवाल } पुन [कपाट] किवाड, विवाही
कवाल } (गडड, श्रौप, गा ६२०) ।

कवाल न [कपाल] १ खोपडी, सिर की ढाँठी-
'करकलिअकवालो' (सुपा १५२) । २ घ-
कर्पर, भिजा-पात्र (आचा, हे १, २३१) ।

कवास पु [दे] एक प्रकार का जूता, अर्धवस्त्र (दे २, ५) ।

कवि देखो इक = कवि (सुर १, २८६) ।

कवि पु [कवि] १ कविता करनेवाला (सुर १, १८, सुपा ५६२, प्रासू ६३) । २ शत्रु, ग्रह-विशेष (सुपा ५६२) । ३ न [कवि] कविता, कविन (सुर १, ४२) । देखो कवि = कवि ।

[^०लना] चमरेन्द्र के सोम नामक लोकपाल-
देव की एक अग्रमहिषी (ठा ४, १—पत्र
२०४) । ^०वियाणग पु [^०वितानक] ग्रह-
विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २
३, पत्र ७७) । ^०सताणग पु [^०सतानरु]
ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा
२, ३—पत्र ७७) । ^०वलि स्त्री [^०वलि]
१ सुवर्ण का एक आभूषण, सुवर्ण की
मणियों से बना आभूषण (अत २७) । २
तप-विशेष, एक प्रकार की तपश्चर्या (श्रीप) ।
३ पु द्वीप-विशेष । ४ समुद्र-विशेष (जीव ३) ।
^०वलिप्रविभक्ति स्त्री [^०वलिप्रविभक्ति]
नाख का एक प्रकार (राय) । ^०वलिभद्र
पु [^०वलिभद्र] कनकावलि द्वीप का एक
अधिष्ठायक देव (जीव ३) । ^०वलिमहाभद्र
पु [^०वलिमहाभद्र] कनकावलिबर नामक
समुद्र का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३) ।
^०वलिमहावर पु [^०वलिमहावर] कनका-
वलिबर नामक समुद्र का एक अधिष्ठाता देव
(जीव ३) । ^०वलिबर पु [^०वलिबर] १
इन नाम का एक द्वीप । २ इस नाम का एक
समुद्र । कनकावलिबर समुद्र का अधिष्ठाता
देव-विशेष (जीव ३) । ^०वलिबरभद्र पु
[^०वलिबरभद्र] कनकावलिबर द्वीप का एक
अधिष्ठाता देव (जीव ३) । ^०वलिबरमहाभद्र
पु [^०वलिबरमहाभद्र] कनकावलिबर नामक
द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।
^०वलिरोभास पु [^०वलिरोभास] १
इन नाम का एक द्वीप । २ इन नाम का एक
समुद्र (जीव ३) । ^०वलिरोभासभद्र पु
[^०वलिरोभासभद्र] कनकावलिबर-
नाम द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) ।
^०वलिरोभासमहाभद्र पु [^०वलिरोभास-
महाभद्र] कनकावलिबरनाम द्वीप
का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३) । ^०वलि-
रोभासमहावर पु [^०वलिरोभास-
महावर] कनकावलिबरनाम समुद्र का एक
अधिष्ठाता देव (जीव ३) । ^०वलिरोभास-
भद्र पु [^०वलिरोभासभद्र] कनकावलि-
बरनाम समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव
३) । ^०वलि स्त्री [^०वलि] देना वलि का

पहला और दूसरा अर्थ (पत्र २७१) । देखो
कणय = कनक ।
कणगसत्तरि स्त्री [कनकसत्तरि] एक प्राचीन
जैनैतर शास्त्र (अणु ३६) ।
कणगा स्त्री [कनका] १ भीम-नामक राक्ष-
सेन्द्र की एक अग्रमहिषी (ठा ४, २—पत्र
७७) । २ चमरेन्द्र के सोम-नामक लोकपाल
की एक अग्र-महिषी (ठा ४, २) । ३ 'णया-
धम्मकहा' सूत्र का एक अध्ययन (णया २,
१) । ४ क्षुद्र जन्तु-विशेष की एक जाति,
चतुरिन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १) ।
कणगुत्तम पु [कनकोत्तम] इस नाम का
एक देव (दीव) ।
कणय पु [दे] १ फूलों को इकट्ठा करना,
अवचय । २ वाण, शर, 'असिखेड्यकणयतो-
मर—' (पउम ८, ८८, परह १, १, दे २,
५६, पात्र) ।
कणय पुत्र [कनक] एक देव विमान (देवेन्द्र
१४४) ।
कणय देखो कणग = कनक (ओघ ३१० भा,
प्रासु १५६, हे १, २२८, उव, पात्र, महा,
कुमा) । ८ पु राजा जनक के एक भाई का
नाम (पउम २८, १३२) । ९ रावण का इस
नाम का सुभट (पउम ५६, ३२) । १०
धत्तरा, वृक्ष-विशेष (से ९, ४८) । ११ वृक्ष-
विशेष (परण १—पत्र ३३) । १२ न
छन्द-विशेष (पिंग) । ^०पठवय पु [^०पवत]
देखो कणग-गिरि (सुपा ४३) । ^०मय वि
[^०मय] सुवर्ण का बना हुआ (सुपा २०) ।
^०म न [^०म] विद्याधरे का एक नगर
(इक) । ^०ली स्त्री [^०ली] घर का एक
भाग (णया १, १—पत्र १२) । ^०वली स्त्री
[^०वली] देखो कणगावली । ३ एक राज-
पत्नी (पउम ७, ४५) ।
कणयदी स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, पाखरी, पाहल
(दे २, ५८) ।
कणविआणय पु [कणवितानरु] देखो
कणगविआणग (मुज्ज २०) ।
कणवी स्त्री [दे] कन्या (वजा १०८) ।
कणवीर पु [करवीर] १ वृक्ष विशेष, कनेर
(हे १, २५३, सुपा १५१) । २ न कणेर
का फूल (परह १, ३) ।

कणि पुंस्त्री [दे] स्फुरण, स्फूर्ति, 'कणी
फुरण' (पात्र) ।
कणिआर देखो कणिणआर (कुमा, प्राप्र, हे
२, ६५) ।
कणिआरिअ वि [दे] १ कानी आँख से जो
देखा गया हो वह । २ न कानी नजर से
देखना (दे २, २४) ।
कणिआर स्त्री [कणिआर] कनेक, रोटी के लिए
पानी से भिजाया हुआ आटा (दे १, ३७) ।
कणिक्क वि [कणिक्क] मल्लय-विशेष (जीव
१) ।
कणिक्का देखो कणिका (आ १४) ।
कणिठ वि [कणिठ] १ छोटा, लघु (पउम
१५, १२, हे २, १७२) । २ निष्ठ, जघन्य
(रभा) ।
कणिय न [कणित] १ आत्त-स्वर । २
आवाज, ध्वनि (आव ४) ।
कणिय } देखो कणिआ (कप्प) । २
कणिया } कणिका, चावल का टुकड़ा
(आचा २, १, ८) । ^०कुडय देखो कण-कुडग
(स ४८७) ।
कणिया स्त्री [कणिता] वीणा-विशेष (जीव
३) ।
कणिर वि [कणिर] आवाज करनेवाला (उप
पु १०३, पात्र) ।
कणिल्ल न [कणिल्ल] नक्षत्र-विशेष का गोत्र
(इक) ।
कणिल्लिका स्त्री [कणिल्लिका] छोटी अणुली
(अगविजा, अघ्या० ६ श्लो० १७५३) ।
कणिस न [कणिश] सस्य-शीर्षक, धान्य का
अग्र भाग (दे २, ६) ।
कणिस न [दे] किशार, सस्य-शूक, सस्य का
तीक्ष्ण अग्र भाग (दे २, ६, भवि) ।
कणीअ } वि [कनीयस्] छोटा, लघु,
कणीअस } 'तस्य भाया कणीसमो पडू नाम'
(वसु, वेणी १७६, कप्प, अत १४) ।
कणीणिगा स्त्री [कनीनिका] १ आँख की
तारा । २ छोटी उगली (राज) ।
कणीर देखो कणेर (चड) ।
कणुय न [कणुक] त्वग् वगैरह का अवयव
(आचा २, १, ८) ।
कणुया देखो कणिया = कणिका (कस) ।

कसा ली [कशा, कसा] चर्म यष्टि, चातुक, कोडा (विपा १, ६, सुपा ३४५)।
 कसा देखो कासा (पङ्)।
 कसाइ वि [कपायिन्] १ कपाय रगवाला। २ क्रोध-मान-माया-लोभवाला (परण १८, आचा)।
 कसाइअ वि [कषायित] ऊपर देखो (गा ४८२, आ ३५, आचा)।
 कसाय सक [कशाय्] ताडन करना, मारना। भूका कसाइथा (आचा)।
 कसाय पुं [कषाय्] १ क्रोध, मान, माया और लोभ (विसे १२२६, द ३)। २ रस-विशेष, कपैला (आ १)। ३ वर्ण विशेष, लाल-पीला रंग (उवा २२)। ४ क्वाथ, काढा। ५ वि कपैला स्वादवाला। ६ कपाय रंगवाला। ७ सुगन्धी, खुशबुदार (हे २, १६०)।
 कसार [दे] देखो कसार (भवि)।
 कसिन् वि [कषिन्] मारनेवाला, विनाशक, चत्तारि एए कसियो कसाया सिचति मूलाइ पुणभववस्स' (सुख १, १)।
 कसिअ न [कशिका] प्रलोद, चातुक, 'अधो मार भइवदीए कसिअ आढत्त' (प्रवौ १०८)।
 कसिआ ली ऊपर देखो (सुर १३, १७०)।
 कसिआ ली [दे] फल विशेष, अरण्याचारी नाग वनस्पति का फल (दि २, ६)।
 कसिअ (वै) देखो कड = कट (पङ्)।
 कसिअ देखो कसण = कृष्ण, कृत्स्न (हे २, १०५, कुमा, प्राग्, दे ४, १२)।
 कुमीरा ली [कश्मीर] एक उत्तर भारतीय देश (प्राग् २८, ३३)।
 कुमेर } पुन [कशेरु, क] जलीय कन्द-
 लेरु } विशेष (गड, परण १)।
 कुमेरु पुन [कशेरु] जलमे होनेवाली वन-
 पति की एक जाति (सूअ २, ३, १८, आचा २, १, ८, ५)।
 कुसोति लो [दे] वाय-विशेष, 'महाहिं व गति भोवा कज ससंति' (सुख १०, १७)।
 कसए पु [दे] पङ्क, कर्दम, कोंबो (दि २, २)।
 कसए न [दे] प्राभूत, उपहार, भेंट (दि २, २३)। २ पुं. क्वा-चार (उप १०३१ टी)।

कस्सव पु [काय्यप] १ वरा विशेष, 'कस्सव-
 वसुत्ततो' (विक्र ६५)। २ ऋषि-विशेष (अभि २६)।
 कह सक [कथय्] कहना, बोलना। कहइ (हे ४, २)। कर्म कथइ, कहिजइ (हे १, १८७, ४, २४६)। वक्क कहत, कहित्त, कहेमाण (रण ७२, सुर ११, १४८)।
 वक्क कथत, कहिजत, कहिजमाण (राज, सुर १, ४४; गा १६८, सुर १४, ६४)। सक कहिउ, कहिऊण (महा-
 काल)। क कहिणज्ज, कहियव्व, कहेयइ, कहणीय (सूअ १, १, १, सुर ४, १६२, सुपा ३१६, परह २, ४, सुर १२, १७०)।
 कह सक [कथ्] क्वाथ करना, उवाचना। कहइ (पङ्)।
 कह पु [कफ] कफ, शरीरस्य वातु-विशेष, बलगम (कुमा)।
 कह देखो कह (हे १, २६, कुमा, पङ्)।
 कहवि देखो कह-ऋषि (गड, उप ७२८ टी)।
 वि देखो कह-पि (प्रासू ११४, १४१)।
 कहाअ अ [कथंवा] वितकं और ग्राथय अर्थ को बतलानेवाला अर्थ (से ७, ३४)।
 कहं अ [कथम्] १ कैसे, किस तरह? (स्वप्न ४५, कुमा)। २ क्यो, किस लिए? (हे १, २६, पङ्, महा)।
 कहपि अ [कथमपि] किसी तरह (गा १४६)।
 कहा ली [कथा] राग-द्वेष को उत्पन्न करनेवाली कथा, विकथा (आचा)।
 चि, चि अ [चित्] किसी तरह, किसी प्रकार से (आ १२, उप ५३० टी)।
 पि अ [अपि] किसी तरह (गड)।
 कहकह पु [कहकह] प्रमोद-कलकल, खुशी का शोर (आ ३, १—पत्र ११६, कण्)।
 कहकह अक [कहकह्य्] खुशी का शोर मचाना। वक्क कहकहित्त (परह १, २)।
 कहकहकह पुं [कहकहकह] खुशी का शोर (भग)।
 कहकह पु [कथकथा] वातचीत (आचा २, १५, २)।
 कहा वि [कथक] १ कहनेवाला, (सट्टि २३)। २ पुं. क्वा-चार (उप १०३१ टी)।

कहण न [कथन्] कथन, उक्ति (धम १)।
 कहणा ली [कथना] ऊपर देखो (अत २, उप ४६७, ६६८)।
 कहय देखो कहग (दे १, १४५)।
 कहल पुन [दे] कर्पूर, लप्पर (अत १२)।
 कहा ली [कथा] कथा, वार्ता, हकीकत (सुर २, २५०, कुमा, स्वप्न ८३)।
 कहाणग } न [कथानक] १ कथा, वाता
 कहाणय } (आ १२, उप ६ ११६)। २
 प्रसंग, प्रस्ताव, 'कय से नाम जालिणित्ति
 कहाणयविसेसेण' (स १३३, ५८८)। ३
 प्रयोजन, कार्य, 'कहाणयविसेसेण ममागमो
 पाडलावह' (स ५८५)।
 कहाव सक [कथय्] कहलाना, बुलाना।
 कहावइ (महा)।
 कहावण पु [कार्पाण] सिका विशेष (ह २, ७१, ६३, कुमा)।
 कहाविअ वि [कथित] कहलाया हुआ (सुगा ६५, ४५७)।
 कहि } अ [क्य, कुत्र] कहा, किस स्थान
 कहिआ } मे? (उवा, भग, नाठ, कुमा
 कहि } उवा)।
 कहित्तु वि [कथयित्तु] कहनेवाला, भाषक (सम १५)।
 कहिय वि [कथित] कथित, उक्त (उप, नाठ)।
 कहिया ली [कथिका] कथा, कहानी (उ १०३१ टी)।
 कहु (अप) अ [कुत] कहा से? (पङ्)।
 कहइ वि [दे] तर्षण, जवान (दे २, १३)।
 कहित्तु देखो कहित्तु (आ ४, २)।
 काअइची } ली [काकचिञ्ची] पुण,
 काइची } पु पची (प्राग् ३०)।
 काइअ वि [मायिक] शारीरिक, गगर-
 सक्की (आ ३४, प्राग्)।
 काइआ } ली [मायिकी] १ शरीर मन-
 काइगा } की क्रिया, शरीर से निवृत्त ध्या-
 पार (आ २, १, नम १०, नम १७) २ शीव-
 क्रिया (स ६४६)। ३ मूत्र, पेशाब (मो २१६, उप २७८)।
 नाइदी ली [नामन्दी] दम नाग की एक
 नगरी, निहार की एक नगरी (उपा ७६)।
 नाइणी ली [दे] पुण्जा, सात रत्ती (दे २, २१)।

करनेवाला एक उपासक (सुपा ५६२) । ४ विक्रम की तृतीय शताब्दी का एक प्रसिद्ध जैनाचार्य, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक शिवभूति मुनि के गुरु (विसे २५५३) । ५ बाला वर्ण (आत्मा) । ६ इस नाम का एक परित्राजक, तापस (श्रौप) । ७ वि श्याम वर्ण, काला रंगवाला (कुमा) । ०ओराल पु [ओराल] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३४) । १ कट्ट पु [कट्ट] वनस्पति-विशेष, वन्द विशेष (परण १—पत्र ३६) । २ कृपिण-थार पु [कृपिणार] काली कनेर का गाछ (जीव ३) । ३ कुमार पु [कुमार] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, ४) । ४ गोमी स्त्री [गोमिन्] काला शृगाल, 'कएहगोमी जहा चित्ता, वटग वा विचित्तय' (वव ६) । ५ गाम न [नामन्] कर्म-विशेष, जिसके उदय में जीव का शरीर काला होता है (राज) । ६ पकेखिय वि [पाखिक] १ क्रूर बर्ष करनेवाला (सूत्र २, २) । २ बहुत काल तक ससार में भ्रमण करनेवाला (जीव) (ठा १, १) । ३ बहुजीव पु [बहुजीव] वृक्ष विशेष, श्याम पुष्पवाला दुपहरिया (जीव २) । ४ भूम, भोम पु [भूम] काली जमीन (आवम, विने १४५८) । ५ राई, राई स्त्री [राजि, जी] १ काली रेखा (भग २, ५, ठा ८) । २ एक इन्द्राणी, ईशानेन्द्र की एक अग्र महिषी (ठा ८, जीव ४) । ३ 'नाता यमबया' सून वा एक अध्ययन—परिच्छेद (राया २, १) । ४ रिसि पु [रिपि] इस नाम वा एर ऋषि, जिसका जन्म गलावती नगरी में हुआ था (ती) । ५ लेस, लेस्स वि [लेस] वृष्या-नेरयावाला (भग) । ६ लेसा, लेस्सा स्त्री [लेसा] जीव का अति निकृष्ट नम—परिणाम, जपन्य-वृत्ति (भम, नम ११ ठा १ १) । ७ बडिसय, बडेसय न [व्रतमर] एव देव विमल (राज, राया २, १) । ८ बडि, बडी स्त्री [बडि, डी] पत्नी-विशेष, नागदमनी नता (परण १) । ९ मप पु [मप] १ बाला रूप (जीव ३) । २ राट (मुत्र २०) । देखो ऊर्द्ध ।

ऊर्द्ध ष [ऊर्द्ध] तिनी में (सूत्र १, ३, ६) । देखो ऊर्द्ध ।

कण्हा स्त्री [कण्हा] १ एक इन्द्राणी, ईशा-नेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ८—पत्र ४२६) । २ एक अन्तकृत स्त्री (अत २५) । ३ द्रौपदी, पाण्डवों की स्त्री (राज) । ४ राजा श्रेणिक की एक रानी (निर १, ४) । ५ ब्रह्म देश की एक नदी (आवम) । कण्हुइ अ [कचिन्] कचिन्, कही भी (सूत्र १, १) । २ कहीं से ? (उत्त २) । कण्हुई देखो कण्हुइ (सूत्र २, २, २१) । कतवार पु [दे] कतवार, कूडा (दे २, ११) । कति देखो कइ = कति (पि ४३३, भग) । कतु देखो कउ = कतु (कप्प) । कत्त सक [कत्त] काटना, छेदना, कतरना । कत्ताहि (परह १, १) । वक्क कत्तत (शोध ४६८) । कत्त मक [कत्त] काटना, चरखे से सूत बनाना । वक्क कत्तत (पिड ५७४) । कत्त वि [कत्त] निमित्त (सक्ति ४०) । कत्त न [दे] कत्त, स्त्री (षड्) । कत्तण न [कर्त्तण] काटना (पिड ६०२) । कत्तण न [कर्त्तण] १ कतरना, काटना (सम १२५, उप पृ २) । २ वि काटनेवाला, कतरनेवाला (सुर १, ७२) । कत्तणया स्त्री [कर्त्तणया] लवन, कतराई (सुर १, ७२) । कत्तर पु [दे] कतवार, कूडा, 'इतो य कविलपुन्यकत्तरवहुभारितिहुपभिर्देहि, केसव-किसो विण्डु' (सुपा २३७) । कत्तरिअ वि [कत्त, कर्त्तित] कतरा हुआ, काटा हुआ, लून (सुपा ५४६) । कत्तरी स्त्री [कर्त्तरी] कतरनी, कैंची (कप्प) । कत्तरीअ पु [कर्त्तरीअ] नृप विशेष (सम १५३, प्रति ३६) । कत्तव्य वि [कर्त्तव्य] १ करने योग्य (स १७२) । २ न काम, काज, काम (आ ६) । कत्ता स्त्री [दे] श्रान्तिक-श्रुत की कपटिका, कोडी (दे २, १) । कत्ति स्त्री [कर्त्ति] चर्म, चमड़ा (स ४३६, गउड, राया १, ८) । कत्ति वि [कर्त्ति] करनेवाला, 'किरिया ए कत्तिरिया' (धर्मस १४५) ।

कर्त्तिकेअ पु [कर्त्तिकेय] महादेव का एक पुत्र, षडानत (दे ३, ५) । कर्त्तिकी स्त्री [कर्त्तिकी] कार्तिक मास की पूर्णिमा (पउम ८६, ३०, इक) । कर्त्तिम वि [कर्त्तिम] कृत्रिम, बनावटी (सुपा ८३, ज २) । कर्त्तिय पु [कर्त्तिक] १ कार्तिक मास (सम ६५) । २ इस नाम का एक श्रेणी (निर १, ३) । ३ भरत क्षेत्र के एक भावी तीर्थंकर के पूर्व भव का नाम (सम १५४) । कर्त्तिया स्त्री [कर्त्तिका] नक्षत्र-विशेष (सम ११, इक) । कर्त्तिया स्त्री [कर्त्तिका] कतरनी, कैंची (सुपा २६०) । कर्त्तिया स्त्री [कर्त्तिकी] १ कार्तिक मास की पूर्णिमा (सम ६६) । २ कार्तिक मास की श्रमावास्या (चद १०) । कर्त्तियवि वि [दे] कृत्रिम, दिखाऊ, 'कर्त्तियविवाहि उवहिण्णहारणाहि' (सूत्रनि १, ४) । कत्तु वि [कर्त्तु] करनेवाला, 'कर्त्ता शुत्ता य पुण्णपावाण' (आ ६) । कत्तो अ [कर्त्तु] कहीं से, किससे ? (पउम ४७, ८, कुमा) । २ कथ वि [कर्त्तु] कहीं से उत्पन्न ? (विसे १०१६) । कत्थ सक [कर्त्थ] श्लाघा करना, प्रशंसना । कत्थइ (हे १, १८७) । कत्थ अ [कर्त्तु] कहीं से ? (षड्) । कत्थ अ [क, कृत्त] कहीं ? (षड्, कुमा, प्रासू १२३) । ३ इ अ [कर्त्तु] कहीं, किसी जगह (आचा, कप्प, हे २, १७४) । कत्थ वि [कर्त्थ] १ कहने योग्य, कथनीय । २ न काव्य का एक भेद (ठा ४, ४—पत्र २८७) । ३ वनस्पति-विशेष (राज) । कत्थत देखो कह = कथ्य । कत्थभाणी स्त्री [कर्त्तभानी] पानी में होनेवाली वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३४) । कत्थूरिया स्त्री [कर्त्तूरी] मृग-भेद, हरिण कत्थूरि की नामि में होनेवाली सुगन्धित वस्तु (सुपा १४७, स २३६, कप्प) । कथ वि [दे] १ उगल, घुल । २ क्षीण, दुर्बल (षड्) ।

काम पु [काम] ? इच्छा, कामना, अभिलाषा (उत्त १४, आचा-प्रासू ६६)। २ सुन्दर शब्द, रूप वगैरह विषय (भग ७, ७, ठा ४, ४)। ३ विषय का अभिलाष (कुमा)। ४ मदन, कन्दर्प (कुमा, प्रासू १)। ५ इन्द्रिय-प्रीति (धर्म १)। ६ मैथुन (परण २)। ७ छन्द-विशेष (पिंग)। °कत न [°कान्त] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। °कम न [°कम] लान्तक देव-लोक के इन्द्र का एक यात्रा-विमान (ठा १०—पत्र ४३७)। °काम वि [°काम] विषय की चाहवाला (परण २)। °कामि वि [°कामिन्] विषयामिलापी (आचा)। °कूड न [°कूट] देव विमान-विशेष (जीव ३)। °गम वि [°गम] ? स्वेच्छाचारी, स्वैरो (जीव ३)। २ न देखो °कम (जीव ३)। °गामि स्त्री [°गामी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३५)। °गुण न [°गुण] ? मैथुन (परह १, ४)। २ शब्द-प्रमुख विषय (उत्त १४)। °घड पु [°घट] ईप्सित चीज को देनेवाला दिव्य कलश (आ १४)। °जल न [°जल] स्नान-पीठ, जिसपर बैठकर स्नान किया जाता है वह पट्ट, 'सिंघाणपीठ तु कामजल' (निचू १३)। °जुग पु [°युग] पक्षि-विशेष (जीव ३)। °उमय न [°ध्वज] देवविमान-विशेष (जीव ३)। °उमया स्त्री [°ध्वजा] इस नाम की एक वेश्या (विपा १, २)। °ट्टि वि [°थिन्] विषयामिलापी (रागा १, १)। °डिहय पु [°डिह्रु] ? जैन साधुओं का एक गण (ठा ६—पत्र ४५१)। २ न जैन मुनियों का एक कुल (राज)। °णयर न [°नगर] विद्याचरो का एक नगर (इक)। °दाइणी स्त्री [°दायिनी] ईप्सित फल को देनेवाली विद्या-विशेष (पउम ७, १३५)। °दुहा स्त्री [°दुधा] कामवेतु (प्रा १६)। °देअ, °देव पु [°देव] ? अलग, कन्दर्प (नाट, स्पन ५५)। २ एक जैन श्रावक का नाम (उवा)। °धेनु स्त्री [°धेनु] ईप्सित फल देनेवाली गौ (काल)। °पाल पुं [°पाल] ? देव-विशेष (दीव)। २ बलदेव, हलायध (पाल)। °पिपासय वि [°पिपासक] विषयामिलापी (भग)। °पुर न [°पुर] इन नाम का एक विद्याचर नगर (इक)। °पपभ

न [°प्रभ] देवविमान-विशेष (जीव ३)। °कास पु [°स्पश] ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठाता देव-विशेष (सुज २०)। °महावण न [°महावन] बनारस के समीप का एक चैत्य (भग १५)। °रुअ पु [°रुप] देश-विशेष, जो आसाम में है (पिंग)। °लेस्स [°लेस्य] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। °वणन [°वर्ण] एक देव-विमान (जीव ३)। °सत्य न [°शास्त्र] रति शास्त्र (धर्म २)। °समणुण वि [°समनोद्ध] कामा-सक्त, कामान्त (आचा)। °सिंगार न [°शृङ्गार] देव-विमान विशेष (जीव ३)। °सिष्ट न [°शिष्ट] एक देव विमान-विशेष (जीव ३)। °वट्ट न [°वर्त] देव-विमान-विशेष (जीव ३)। °वसाइत्त स्त्री [°वशा-यिता] योगी का एक तरह का ऐरवर्ष, जिसमें योगी अपनी इच्छा के अनुसार सर्व पदार्थों का अपने चित्त में समावेश करता है (राज)। °ससा स्त्री [°दासा] विषयामिलाष (ठा ४, ४)। काम भ्र [°कामम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ भ्रवधारण (सूत्र २, १)। २ अनुपति, सम्पत्ति (निचू १६)। ३ अभ्युपगम, स्वीकार (सूत्र २, ६)। ४ अतिशय, अविषय (हे २, २१७)। कामग न [°कामाङ्ग] कन्दर्प का उत्तोजक स्नान वगैरह (सूत्र २, २)। कामदुहा स्त्री [°कामदुधा] कामवेतु, ईप्सित वस्तु को देनेवाली दिव्य गौ (पउम ८२, १४)। कामध पु [°कामान्ध] विषयातुर, तीव्र कामी (प्रासू १७६)। कामकिसोर पु [°दे] गर्दभ, गधा (दे २, ३०)। कामग वि [°कामक] ? शमिलपक्षीय, बाढ-नीय (परह १, १)। २ चाहनेवाला, इच्छुक (सूत्र १, २, २)। कामण न [°कामन्] चाह, अभिलाष, 'परद-व्यिकामणेण जीवा नरयम्मि वच्चति' (महा)। कामय देखो कामग (उवा)। कामि वि [°कामिन्] विषयामिलापी (आचा, गडड)।

कामि वि [°कामिन्] शमिलापी (सूत्र १५७)। कामिअ वि [°कामित] वाञ्छित, अभिपदि (सुवा २५५)। कामिअ वि [°कामिक] ? काम सम्बन्धी, विषय-सम्बन्धी (भक्त १११)। २ न तोरं विशेष (ती २८)। ३ सरोवर-विशेष, जिसमें ईप्सित जन्म मिलता है (राज)। ४ वि. इच्छा पूर्ण करनेवाला (स ३६०) ५ वि. इच्छुक, इच्छावाला, सामिलाप (विपा १, १)। कामिआ स्त्री [°कामिका] इच्छा, शमिलाप, 'अकामिआए चिण्ति दुक्ख' (परह १, ३)। कामिजुल पु [°कामिजुल] पक्षि विशेष (दे २, २६)। कामिडिह्य पु [°कामिडिह्य] एक जैन मुनि, प्रायं सुहस्तिपुरि का एक शिष्य (कप्प)। कामिडिह्य न [°कामिडिह्य] जैन मुनिया का एक कुल (कप्प)। कामिणी स्त्री [°कामिनी] कान्ता, स्त्री (सूत्र ५)। कामिय वि [°कामित] यथेष्ट, जितना चाह उतना (पिंड २७२)। कामुअ } वि [°कामुक] कामी, विषयामिलापी कामुग } (मै २५, महा)। °सत्य न [°शास्त्र] काम शास्त्र, रति-शास्त्र (उप ५३० टी)। कामुत्तरवडिसग न [°कामोत्तरावतसरु] देवविमान-विशेष (जीव ३)। काय पु [°काय] ? वनस्पति की एक जाति (सूत्र २, ३, १६)। २ एक महाग्रह (उज २०)। ३ पुन जीव-निकाय, जीव-समूह, 'एयाई कायाइ पवेदिताइ' (सूत्र १, ७, २)। °भत वि [°वत्] बड़ा शरीरनाता (सूत्र २, १, १३)। °वह पुं [°वध] जीव शिष्ट (यावक ३४६)। काय पु [°काय] ? शरीर, देह (ठा ३, १, कुमा)। २ समूह, रागि (चित् ६००)। ३ देश-विशेष (परह १, १)। ४ वि. उन देश में रहनेवाला (परण १)। °मुत्त वि [°मुम्] शरीर को बड़ा में रखनेवाला (भग)। °मुत्ति स्त्री [°मुत्ति] शरीर को बड़ा में राना, जिनैद्रियना (भग)। °जोअ, °जोग पु [°जोग] शरीर ध्यापर, शरीरिष्ठ शिष्या (भग)। °जोगे वि [°योगिन] शरीर-रत्न

कृपणा स्त्री [कल्पना] १ रचना, निर्माण ।
 २ प्रत्यय, निष्प्रय (निचू १) । ३ कल्पना,
 विकल्प (विसे १६३२) ।
 कृपणी स्त्री [कल्पनी] कतरनी, कैंची (परह
 १, १, विपा १, ४, स ३७१) ।
 कृपर पु [कर्पर] खप्पर, कपाल, सिर की
 बोधै (बृह ४, नाट) । देखो कुप्पर =
 कर्पर ।
 कृपरिअ वि [दे] दारित, चीरा हुआ (दे २,
 २०, बजा ३४, भवि) ।
 कृपास पु [कार्पास] १ कपास, रई । २
 जन (निचू ३) ।
 कृपासत्थि पु [कार्पासास्थि] त्रीन्दिय जीव-
 विशेष, धुदर जन्तु-विशेष (जीव १) ।
 कृपासिअ वि [कार्पासिक] १ कपास
 बनवाला (अणु १४६) । २ न जैनेतर
 शास्त्र विशेष (अणु ३६, एदि) ।
 कृपासिय वि [कार्पासिक] कपास का बना
 हुआ, सूती वगैरह (अणु) ।
 कृपासी स्त्री [कर्पासी] रई का गाछ (राज) ।
 कृपाआकृपाअ न [कल्पाकल्प] एक जैन
 शास्त्र (एदि २०२) ।
 कृपर वि [कल्पित] १ रचित, निर्मित
 (पैत) । २ स्थापित, समीप में रखा हुआ,
 नम्रपणु दुयारे त अल्ल मस रहिर अण-
 गीय चरै (निर १, १) । ३ कल्पना निर्मित,
 विनियत (दमनि १) । ४ व्यवस्थित (आचा,
 ११ २) । ५ छिन्न, काटा हुआ (विपा
 १, ५) ।
 कृपर वि [कल्पिक] १ अनुमत, अनिच्छ
 (दे ३०) । २ योग्य, उचित (गच्छ १,
 २) । ३ पु गीतार्थ, ज्ञानी साधु, 'कि वा
 कृपर' (वव १) ।
 कृपास्त्री [कल्पिका] जैन ग्रन्थ-विशेष,
 नानाग्रन्थ (ज १, निर) ।
 कृपर [कर्पर] कृपर, सुगन्धि द्रव्य-विशेष
 (दे ३, १, सुर २, ६, सुपा २६३) ।
 कृपर [कृपोपकर] १ कल्प-युक्त । २
 नाना देव लोक-नामी देव (परह
 १, १) ।
 कृपोपकर पु [कृपोपकर] ऊपर देखो

कृपोववत्तिआ स्त्री [कृपोपपत्तिका] देव-
 लोक विशेष में उत्पत्ति (भग) ।
 कृप्फल न [कृप्फल] इस नाम की एक
 वनस्पति, कायफल (हे २, ७७) ।
 कृप्फाड देखो कवाड = कपाट (गडड) ।
 कृप्फाड [दे] देखो कफाड (पात्र) ।
 कफ पु [कफ] कफ, शरीर स्थित घातु विशेष
 (राज) ।
 कफाड पु [दे] गुफा, गुहा (दे २, ७) ।
 कवध (शौ) देखो नमव (प्राकृ ८५) ।
 कव्वड्डी स्त्री [दे] छोटी लडकी (पिंड २८५) ।
 कव्वड } पुन [कर्वट] १ खराब नगर,
 कव्वडग } कुत्सित शहर (भग, परह १,
 २) । २ पु ग्रह विशेष, ग्रहाधिपत्यक देव-विशेष
 (ठा २, ३—पत्र ७८) । ३ वि कुनगर का
 निवासी (उत्त ३०) ।
 कव्वर देखो कव्वुर (प्राकृ ७) ।
 कव्वडाडभयय पु [दे] ठीका पर जमीन खोदने
 का काम करनेवाला मजदूर ठा ४, १—पत्र
 २०३) ।
 कव्वुर } वि [कर्वुर] १ कबरा, चितक
 कव्वुरय } बरा, चितला (गडड, अचु
 ६) । २ पु ग्रह-विशेष, ग्रहाधिपत्यक देव-
 विशेष (ठा २, ३, राज) ।
 कव्वुरिअ वि [कर्वुरित] अनेक वर्णवाला,
 चितकबरा किया हुआ, 'देहकतिकव्वुरिय-
 जम्मगिह' (सुपा ५४), 'मरिणमयतोरणघोर-
 णितरणपहाकिरणकव्वुरिअ' (कुम्मा ६,
 पउम ८२, ११) ।
 कभ (अप) देखो कफ (पड) ।
 कभल्ल न [दे] कपाल, खप्पर (अनु ५, उवा) ।
 कभ सक [कम्] १ चलना, पाँव उठाना ।
 २ उल्लघन करना । ३ अक फैलना,
 पसरना । ४ होना, 'मणसोवि विसयनियमो
 न कम्मइ जओ स सब्बत्थ' (विसे २४६),
 'न एत्थ उवायत्तं कम्मइ' (स २०६) । वक्क.
 कमत (से २, ६) । कृ कभगिज्ज (औप) ।
 कभ सक [कम्] चाहना, वाञ्छना । कवक
 कम्ममाग (दे २, ८५) । कृ कभणीय
 (सुपा ३८, २६२), कम्म (खाया १, १४
 टी—पत्र १८८) ।
 कभ अक [कम्] १ नगत होना, युक्त होना,

घटना । २ अधिक रहना । कम्म (पिंड २३१,
 पव ६१) ।
 कभ पुं [कम्] १ पाद, पग, पाँव (सुर १,
 ८) । २ परम्परा, 'नियकुलकमागयाओ पिउणा
 विज्जाओ मज्झ दिन्नाओ' (सुर ३, २८) ।
 ३ अनुक्रम, परिपाटी (गडड) । ४ मर्यादा,
 सीमा (ठा ४) । ५ न्याय, फेसला, 'अवि-
 आरिअ कम्म ए करिस्सदि' (स्वप्न २१) ।
 ६ नियम (बृह १) ।
 कभ पु [कम्म] श्रम, थकावट, क्लान्ति (हे
 २, १०६, कुमा) ।
 कभडल्ल पुन [कमण्डलु] सन्यासियों का
 एक मिट्टी या काष्ठ का पात्र (निर ३, १,
 परह १, ४, उप ६४८ टी) ।
 कभध पुन [कवन्ध] रुड, मस्तकहीन शरीर
 (हे १, २३६, प्राप्र, कुमा) ।
 कभड पु [दे] १ दही की बलश्री । २
 पिठर, स्थाली । ३ बलदेव । ४ मुख, मुँह
 (दे २, ५५) ।
 कभड पु [कमठ, कं] १ तापस-विशेष,
 कमठग जिसको भगवान् पारवनाथ ने बाद में
 कमठय जीता था और जो मरकर दैत्य हुआ
 था (एमि २२) । २ कूर्म, कच्छप (पात्र) ।
 ३ वश, वाँस । ४ शल्लकी वृक्ष (हे १,
 १६६) । ५ न मैल, मल (निचू ३) । ६
 साध्वियों का एक पात्र (निचू १, श्लो ३६
 भा) । ७ साध्वियों को पहनने का एक वस्त्र
 (श्लो ६७५, बृह ३) ।
 कभण न [कमण] १ गति, चाल । २ प्रवृत्ति
 (आहू ४) ।
 कभणिया स्त्री [कमणिका] उपानत्, जूता
 (बृह ३) ।
 कभणिल्ल वि [कमणीवत्] जूतावाला, जूता
 पहना हुआ (बृह ३) ।
 कभणी स्त्री [कमण] जूता, उपानत् (बृह ३) ।
 कभणी स्त्री [दे] नि श्रेणिए, सीढी (दे २, ८) ।
 कभणीय वि [कमणीय] सुन्दर, मनोहर
 (सुपा ३४, २६२) ।
 कभल्ल पु [दे] १ पिठर, स्थाली । २ पट्ट,
 टोल (दे २, ५४) । ३ मुख, मुँह (दे २,
 ५४, पड) । ४ हरिण, मृग, 'तत्थ य एगो
 कभलो सगग्गहिरिणीए सगग्गो वसइ' (सुर

कारायणी स्त्री [दे] शाल्मलि-कुक्ष, सेमर का पेड (दि २, १८) ।

काराव देखो कारव । कारावेइ (पि ५५२) । भवि काराविस्त (पि ५२८) ।

कारावण देखो कारवण (परह १, ३, उप ४०६) ।

कारावय वि [कारक] करानेवाला, विधायक (स ५५७) ।

काराविय वि [कारित] करवाया हुआ, बनवाया हुआ (विसे १०१६, सुर ३, २४, स १६३) ।

कारि वि [कारिन्] कर्ता, करनेवाला, 'एयस्त कारिणो बालिसत्तमारोविया जेण' (उप ५६७ टी), 'एयन्नणत्थस्स कारिणी अहय' (सुर ८, ५६) ।

कारिका देखो कारिया (संदु ४६) ।

कारिम वि [दे] कृत्रिम, बनावटी, नकली (दि २, २७, गा ४५७, पड, उप ७२८ टी, स ११६, प्रासू २०) ।

कारिय देखो कज्ज = कार्य (सूत्र १, २, ३, १०, दस ६, ६५) ।

कारिय वि [कारित] कराया हुआ, बनवाया हुआ (परह २, ५) । कार्य (सूत्र गा १५१) ।

कारियइई स्त्री [दे] बल्ली-विशेष, करैला का गाछ (परह १—पत्र ३३) ।

कारिया स्त्री [कारिका] करनेवाली, कर्त्री (उवा) ।

कारिइ देखो कारि (सबोध ३८) ।

कारिही स्त्री [दे] बल्ली विशेष, करैला का गाछ (सक्त ६१) ।

कारीस पु [कारीष] गोइडा की ग्रनि, बडा की आग (उत्त १२) ।

कारु पु [कारु] १ कारीगर, शिल्पी (पात्र, प्रासू ८०) । २ नव प्रकार के कारु चर्मकर आदि ।

कारुइज्ज वि [कारुकीय] कारीगर से सम्बन्ध रखनेवाला (परह १, २) ।

कारुणिय वि [कारुणिक] दयालु, कृपालु (ठा ४, २, सण) ।

कारुण्य } न [कारुण्य] दया, कल्याण, (महा कारुण्य } उप ७२८ टी) ।

कारेमाण } देखो कार = कारय् ।
कारेयव्व }

कारेइय न [दे] करैला, तरकारी-विशेष (अनु ६) ।

कारोडिय पु [कारोटिक] १ कापालिक, भिक्षुक विशेष । २ ताम्बूल वाहक, स्थगोधर (औप) ।

काल न [दे] तमिल, अन्वकार (दि २, २६ पड) ।

काल पु [काल] १ समय वक्त (जी ४६) ।

२ मृत्यु, मरण (विसे २०६७, प्रासू ११२) । ३ प्रस्ताव, प्रसंग, अवसर (विसे २०६७) ।

४ विलम्ब, देरी (स्वप्न ६१) । ५ उमर, वय (स्वप्न ४२) । ६ ऋतु (स्वप्न ४२) ।

७ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । ८ ज्योति-शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १६) । ९ सातवीं नरक-पृथ्वी का एक नरकावास (ठा ५, ३—पत्र ३४१, सम ५८) ।

१० नरक के जीवों को दुःख देनेवाले परमाधार्मिक देवों की एक जाति (सम २८) । ११ वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) ।

१२ प्रभञ्जन इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । १३ इन्द्र-विशेष, पिशाच-निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । १४ पूर्विय लवण समुद्र के पाताल कलशों का अधिष्ठाता देव (ठा ४, २—पत्र २२६) । १५ राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, १) । १६ इस नाम का एक गृहपति (आया २, १) । १७ अभाव (बृह ४) । १८ पिशाच देवों की एक जाति (परह १) । १९ निधि-विशेष (ठा ६—पत्र ४४६) । २० बर्ण-विशेष, श्याम-वर्ण (परह २) । २१ न देव-विमान-विशेष (मम ३५) । २२ 'निरयावली' सूत्र का एक अध्ययन (निर १, १) । २३ काली-देवों का सिंहासन (आया २) । २४ वि कृष्ण, काला रंग का (सुर २, ५) । २५ कति वि [वाडि-क्षन्] १ समय की अपेक्षा करने-वाला (प्राचा) । २ अवसर का ज्ञाता (उत्त ६) । ३ कृप पु [कृप] १ समय-सम्बन्धी शास्त्रीय विधान । २ उसका प्रतिपादक शास्त्र (पचमा) । ३ काल पु [काल] मृत्यु-समय (विसे २०६६) । ४ कूड न [कूट] उन्कट

विप-विशेष (सुपा २३८) । ५ क्वेव पु [क्वेप] विलम्ब, देरी (से १३, ४२) । ६ गय वि [गत] मृत्यु-प्राप्त, मृत (आया १, १, महा) । ७ चक्र न [चक्र] १ वीच सागरोपम परिमित समय (एदि) । २ एक भयकर शस्त्र, 'जाहे एवमवि न सकइ ताहे कालचक्र विलवइ' (आवम) । ३ चूला स्त्री [चूडा] अधिक-मास वगैरह का अतिक समय (निहू १) । ४ णु वि [ज्ञ] अन्तर का जानकार (उप १७६ टी, आचा) । ५ ददु वि [ददु] मौत से मरा हुआ (उप ७२८ टी) । ६ देव पु [देव] देव-विशेष (दीव) । ७ वम्म पु [धर्म] मृत्यु, मरण (आया १, १, विपा १, २) । ८ ज्ञ, न्नु देखो णु (पि २७६, सुपा १०९) । ९ परियाय पु [पर्याय] मृत्यु समय (आचा) । १० परिहीण न [परिहीन] विलम्ब, देरी (राय) । ११ पाल पु [पाल] देव विशेष, धरणेन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । १२ पास पु [पाश] ज्योति-शास्त्र-प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८) । १३ पिट्ट, पुट्ट पुन [पृष्ट] १ धनुष । २ कर्ण का धनुष । ३ काना हरिण । ४ कौञ्च पक्षी (पि ५३) । ५ पुरिस पु [पुरुष] जो पुवेद कर्म वा अनुभव करता हो वह (सूत्र १, ४, १, २ टी) । ६ पभ पु [प्रभ] इस नाम का एक पर्वत (ठा १०) । ७ फोडय पुस्त्री [फोटक] प्राणहर फोडा । स्त्री 'डिया (रभा) । ८ मास पु [मास] मृत्यु समय, 'कालमासे काल किचा' (विपा १, १, २, मग ७, ६) । ९ मासिणी स्त्री [मासिनी] गर्भिणी, गुर्विणी (दस ५, १) । १० मिग पु [मृग] कृष्ण मृग की एक जाति (ज २) । ११ रत्ति स्त्री [रात्रि] प्रलय रात्रि, प्रलय-काल (गड) । १२ वडिसग न [वडिसरु] देव-विमान-विशेष, काली देवों का विमान (आया २) । १३ वाइ वि [वादिन्] जगत् की कालकृत माननेवाला, समय की ही सब कुछ माननेवाला (एदि) । १४ जामि पु [जामिन्] अन्तर पर चलनेवाला नेप (ठा ४, ३—पत्र २६०) । १५ मंदीन पु [मंदीप] धनुष-विशेष, विप्रापुर (मान) ।

पुद्गल ममूह (पच) । °वाइ वि [°वादिन्] भाग्य को ही मव कुछ माननेवाला (राज) । °विनाग पु [°विपाक] ? कर्म परिणाम, कर्म-फल । २ कर्म-विपाक का प्रतिपादक ग्रन्थ (कम्म १, १) । °सवच्छर पु [°मरसर] लौकिक वर्ष (सुज्ज १०) । °साला ली [°शाला] ? कारखाना । २ कुम्भकार का घटादि बनाने का स्थान (बृह २) । °सिद्ध पु [°सिद्ध] कारीगर, शिल्पी (श्राम) । °जीव [°जीव] ? कारीगर । २ कारीगरी का कोई भी काम बतलाकर भिगादि प्राप्त करनेवाला साधु (ठा ५, १) । °दान न [°दान] जिससे भारी पाप हो ऐसा व्यापार (भग ८, ५) । °यरिय पु [°य] कर्म से श्रायं, निर्दोष व्यापार करने-वाना (परण १) । °वाइ देखो °वाइ (श्रान्त) । कर्म नि [°कर्मण] ? कर्म-सम्बन्धी, कर्म-जन्य, कर्म-निमित्त, कर्म-मय । २ न कर्म-पुद्गल को ही बना हुआ एक अत्यन्त सूक्ष्म शरीर, जो भवान्तर में भी श्रान्त के साथ ही रहता है (ठा १, कम्म ४) । २ कर्म-निरोध, कर्मण-शरीर का हेतु-भूत कर्म (कम्म २, २१) । ३ कर्मण शरीर का ध्वार (कम्म २, १५, कम्म ४) । कम्मट्ट न [°कर्मचित, °कर्मण] ऊपर देखो (पट्ट १०२, ६८) । कम्मत्त पु [°दे, °कर्मन्ति] ? कर्म-बन्धन का गारा (श्रान्त सूत्र २, २) । २ कर्म-स्थान, कर्मण (दे २, ५२) । कम्मत्त नि [°कुर्वन्] ? हजामत करता हुआ । २ राम, नापित (कुमा) । °साला ली [°शाला] जहाँ पर उन्तरा—वाल बनाने का पुग आदि मजाया जाता हो वह स्थान (निपू ८) । कम्मधर दोषो कम्म-कर (प्राट्ट २६) । कम्मग न [°कर्मक, °कर्मक, °कर्मण] देखो कम्म = कामण (ठा २, २, परण २१, भा) । कम्मग न [°कर्मण] ? कर्म मय शरीर (द २२) । २ कर्मण, मन्त्र आदि के द्वारा मोक्ष, कर्मण, उपायन आदि कर्म (उज १३८ दं, प १०८) । °गारि नि [°गारिन्] ।

कामण करनेवाला (सुर १, ६८) । °जोय पु [°योग] कामण-प्रयोग (राया १, १४) । कम्मण न [°भोजन] भोजन (कुमा) । कम्ममाण देखो कम्म = कम्म । कम्मय देखो कम्मग (भग, पच) । कम्मव सक [उप + भुज्] उपभोग करना । कम्मवइ (हे ४ १११, पइ) । कम्मवण न [उपभोग] उपभोग, काम में लाना (कुमा) । कम्मस वि [°कलमप] ? मलिन । २ न पाप (पात्र, हे २, ७६, प्रामा) । कम्माली [°कर्मन्] क्रिया, व्यापार (ठा ४, २—पत्र २१०) । कम्मर पु [°कर्मार] ? लोहार, लोहकार (विसे १५६८) । २ श्राम-विशेष (श्राद्ध १) । कम्मर वि [°कर्मकार, °क] ? नौकर, कम्मरग चाकर (स ५३७, श्रोष ४, ६४ कम्मरय) । २ कारीगर, शिल्पी (जीव ३) । कम्मरिया ली [°कर्मकारिका] ली-नौकर, दासी (सुपा ६३०) । कम्मि वि [°कर्मिन्] कर्म करनेवाला, कम्मिअ } अभ्यासी । 'रावकम्मिएण उअ पामरेण देट्ठण पाउहारीओ मोतव्वे जोत्तअग्रगहम्मि अवरसएणी पुक्का।।' (गा ६६४) । २ पाप कर्म करनेवाला (सूत्र १, ७, ६) । कम्मिया ली [°कर्मिका, °कर्मिका] ? अभ्यास से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (राया १, १) । २ अक्षीण कर्म विशेष, श्रवणश्रुत कर्म (भग) । कम्महल न [°कम्मल] पाप (राज) । कम्महा अ [°कम्मत्त] क्यों, किम कारण से ? (श्रीप) । कम्महार देखो कम्मर (हे २, ७४) । °ज न [°ज] केसर, कुकुम (कुमा) । कम्मिअ पु [°दे] माली, मालाकार (दे २, ८) । कम्महीर देखो कम्मर (मुद्रा २८२, पि १२०, ३१२) । कम्म पु [°कच] केश, बाल (हे १, १७७, कुमा) । कम्म पु [°कच] खरीदना (मुपा ३४४) । कम्म देवो कड = कून (श्राचा, कुमा, प्रासू १५) । °उण्ण, °उन्न वि [°पुण्य] पुण्यशाली, भाग्यशाली (न ६०७, सुपा ६०६) । °क

देवो °ग (परह १, २) । °कज्ज वि [°काय] कृतार्थ, सफल-मनोरथ (राया १, ८) । °करण वि [°करण] अभ्यासी, कृताभ्यास (बृह १, परह १, ३) । °किच्च वि [°कृत्य] कृतार्थ, सफल मनोरथ (सुपा २७) । °ग वि [°क] ? अपनी उत्पत्ति में दूसरे की अपेक्षा करनेवाला, प्रयत्न-जन्य (विसे १८३७, स ६५३) । पु दास-विशेष, गुलाम, 'भयगमत्तं वा वनभत्तं वा कयगमत्तं वा' (निचू ६) । ३ न सुवर्ण, सोना (राज) । °गघ वि [°गघ] उपकार न माननेवाला, कृतघ्न (सुर २, ४४० सुपा ५८८) । °जाणुअ वि [°ज्ञायक] कृतज्ञ, उपकार को माननेवाला (पि ११८) । °णु वि [°ज्ञ] उपकार को माननेवाला, किए हुए उपकार की कदर करनेवाला (वम्म २६) । °णुया ली [°ज्ञता] कृतज्ञता एहसानमन्दी, निहोरा मानना (उप पृ ८६) । °थ वि [°ार्थ] कृतकृत्य, चरितार्थ, सफल-मनोरथ (प्रासू २३) । °नासि वि [°ना-शिन्] कृतघ्न (श्रोष १६६) । °न्न, °न्नु देखो °णु, 'जं कित्तिलहिराया विवेयनय-मदिर कयन्नगुळ' (सुपा ३०१, महा, स ३३, श्रा २८) । °पजलि वि [°प्राञ्जलि] कृताञ्जलि, नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो वह (श्राव) । °पडिकइ ली [°प्रतिकृति] ? प्रत्युपकार (पचा १६) । २ विनय-विशेष (वव १) । °पडिकइया ली [°प्रतिकृतिता] ? प्रत्युपकार (राया १, २) । २ विनय का एक भेद (ठा ७) । °वलिकम्म वि [°वलिकर्मन्] जिसने देवता की पूजा की है वह (भग २, ५, राया १, १६—पत्र २१०, तदु) । °मगाला ली [°मङ्गला] इस नाम की एक नगरी (सथा) । °माल, °मालय वि [°माल, °क] ? जिसने माला बनाई हो वह । २ पु बुद्ध-विशेष, कनेर का गाल, 'अकोल्लविल्लसल्लइकयमालतमान-सालडट्ट' (उप १०३१ टी) । ३ तमिन्ना-नामक उफा का अविष्टायक देव (ठा २, ३) । °लक्ष्ण वि [°लक्ष्ण] जिम्मे श्रपन शरीर चिह्न को सफल किया हो वह (भग ६, ३३, राया १, १) । °व वि [°वन्] जिसने किया हो वह (विसे १५५५) । °वणमाल-

कालुस्स न [कालुञ्च्य] कलुपपन (सा २) ।
कालेज्ज न [दे] तापिञ्ज, श्याम तमाल का
पेठ (दे २, २६) ।

कालेय न [कालेय] ? काली देवी का अपत्य ।
२ सुगन्धि द्रव्य विशेष, कालचन्दन (स ७५) ।
३ हृदय का मास-खण्ड, कलेजा (सूत्र १,
५, १, २भा) ।

कालोद देखो कालोय (जीव ३) ।
कालोदधि पु [कालोदधि] समुद्र-विशेष
(परह १, ५) ।

कालोदाइ पु [कालोदायिन्] इस नाम का
एक दार्शनिक विद्वान् (भग ७, १०) ।

कालोय पु [कालोद] समुद्र विशेष जो
घातकी-खण्ड द्वीप की चारों तरफ घिर कर
स्थित है (सम ६७) ।

काव } पु [दे] ? काँवर, वहाँगी, बोभ
कावड } होनेके लिए तरावुमुमा एक वस्तु,
इसमें दोनो ओर सिकहर लटकये जाते हैं
(जीव ३, पठम ७५, ५२) । °कोडिय पु
[°कोटिक] काँवर से भार होनेवाला
(अणु) । देखो काय = (दे) ।

कावडि } स्त्री [दे] कावर (कुप १२१,
कावोडि } २४४, दस ४, १ टी) ।

कावडिअ पु [दे] वैवधिक, काँवर से भार
होनेवाला (पठम ७५, ५२) ।

कावध पु [कावध] एक महाग्रह, अहावि-
हायक देव-विशेष (राज) ।

कावल्लिअ वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे
२८) ।

कावल्लिअ वि [कावल्लिक] कवल प्रक्षेप रूप
आहार (भग, सग १८१) ।

कावाल्लिअ पु [कापालिक] वाम-मार्गों, अघोर
सम्प्रदाय का मनुष्य (सुपा १७४, ३६७, दे
१, ३१, प्रवो ११५) ।

कावाल्लिआ } स्त्री [कापालिकी] कापालिक-
कावाल्लिणी } अतवाली स्त्री (गा ४०८) ।

काविद्ध न [कापिड] देव-विमान-विशेष (सम
२७, पठम २०, २३) ।

काविल्ल न [कापिल] ? साध्य-दर्शन (सम्म
१४५) । २ वि. साध्य मत का अनुयायी
(औप) ।

काविल्लिय वि [कापिलीय] ? कपिल मुनि-
सन्धी । २ न कपिल मुनि के वृत्तान्तवाला
एक ग्रन्थारा, 'उत्तराध्ययन' सूत्र का आठवाँ
अध्ययन (सम ६४) ।

काविसायण देखो कविसायण (जीव ३) ।
कावी स्त्री [दे] नीलवर्णवाली, हरा रंग की
चीज (दे २, २६) ।

कावुरिस देखो कापुरिस (स ३७५) ।

कावेअ न [कापेय] वानरपन, चञ्चलता
(अच्छु ६२) ।

कावोय वि [दे] काँवर वहन करनेवाला
(अणु ४६) ।

कास देखो कडुड = कृप् । कासइ (पड्) ।

कास अक [कास्] ? कहरना, रोग विशेष
से खराब आवाज करना । २ कासना, खाँसी
को आवाज करना । ३ खोखार करना । ४
छीक खाना । वडु कासत, कासमाण (परह
१, ३—पत्र ५४, आचा) । सक कासित्ता
(जीव ३) ।

कास पु [काश, °स] ? रोग विशेष, खाँसी
(आया १, १३) । २ तुण-विशेष, कास, काम-
कुसुमव मन्ने सुनिफल जम्म-जीविय नियय'
(उप ७२८ टी), 'कासुकुसुमव विहल' (आप
५८) । ३ उसका फूल जो सफेद और शोभाय-
मान होता है, 'ता तत्य नियइ पुलि ससहर-
हरहासकासकास' (सुपा ४२८, कुमा) । ४
ग्रह विशेष, ग्रह-देव-विशेष (ठा २, ३) । ५
रस (ठा ७) । ६ ससार, जगत् (आचा) ।

कास देखो कस = कास्य (हे १, २६, पड्) ।

कासकस वि [कासकूप] प्रमादी, ससार में
आसक्त (आचा) ।

कासग देखो कासय, 'जेण रोहति वीजाई,
जेण जौनति कासगा' (निचू १) ।

कासण न [कासन] खोखारना, खाट्कार
(श्रेय २३५) ।

कासमद्दा पु [कासमर्दक] वनस्पति-विशेष,
शुच्य-विशेष (परण १—पत्र ३२) ।

कासय } पु [कर्पक] कृपीवल, निमान (दे
कासय } १, ८७, पात्र) ।

'जह वा कुण्णइ मन्माई,
कासणे गरिण्णमाइ दित्तमि ।

तह मूयाई कयंतो, वरुसहावो इमो जहा'
(सुपा ६५१) ।

कासव पु [काश्यप] ? इन नाम का एक
ऋषि (प्रामा) । २ हरिण की एक जाति ।
२ एक जात की मछली । ४ दस प्रजापति
का जामाता । ५ वि साह पीनेवाला (हि १,
४३, पड्) ।

कासव न [काश्यप] ? इस नाम का एक
गोत्र (ठा ७, आया १, १, कप्) । २ पु
भगवान् ऋषभदेव का एक पूर्व पुरुष । ३ नि
काश्यप गोत्र में उत्पन्न, काश्यप-गोत्रीय (ठा
७—पत्र ३६०, उत्त ७, कथ, सूत्र १, ६) ।
४ पु नापित, हजाम (भग ६, १०, आवम) ।
५ इस नाम का एक गृहस्य (अत १८) । ६
न इस नाम का एक 'अतगडवसा' सूत्र का
अध्ययन (अत १८) ।

कासवनालिया स्त्री [काश्यपनालिका] श्री
पर्णीफल (आचा २, १, ८, ६, दस ५, २,
२१) ।

कासविज्जया स्त्री [काश्यपीया] जैन मुनिया
की एक शाखा (कप्) ।

कासवी स्त्री [काश्यपी] ? पृथिवी, बर्तनी
(कुमा) । २ कश्यकप-गोत्रीया स्त्री (कप्) ।
'इइ स्त्री [रति] भगवान् सुमतिनाय की
प्रथम शिष्या (सम १५०) ।

कासा स्त्री [कृशा] दुबल स्त्री (हे १ १२७,
पड्) ।

कासाइया } स्त्री [कापायी] कपाय रंग में
कासाई } रंगी हुई साड़ी, जान साड़ी (वन्-
उवा) ।

कासाय वि [कापाय] कपाय-रंग से रंगा
हुआ वस्त्रादि (गडड) ।

कासार न [कासार] ? तलाव, छोटा मगजर
(सुपा १६६) । २ पद्मविशेष, कँजार
(स १८६) । ३ पु समूह, जत्वा (गडड) ।
४ प्रदेश स्थान (गडड) । °भूमि स्त्री
[°भूमि] नितम्ब-अदेश (गडड) ।

कासार न [दे] धातु विशेष, मीमांस्य (दे
२, २७) ।

कासि पु [काशी] ? षष्ठ निगोप, काशी
जिला 'कामित्ति जलवर्मा' (सुग ३१, उण
१८) । °कारी देश का राजा (कुमा) ।

करगहलुलिओ धम्मिल्लो (गा ५४४) । २ पाणि-ग्रहण, शादी (राज) । °य पु [°ज] नव (काप्र १७२) । °रुह पुन [°कररुह] १ नव (हे १, ३४) । २ पु वृष-विशेष (पत्रम ७७, ८८) । °लाघव न [°लाघव] कना-विशेष, हस्त-लाघव (कम्प) । °वन्दन न [°वन्दन] नन्दन का एक दोष, एक प्रकार का शुल्क समझकर वन्दन करना (बृह ३) । करअडी } ली [दे] स्थूल वृक्ष, मोटा कपडा करअरी } (दे २, १६) । करआ ली [करका] करका, शोला, शिला-शुट्टि (अञ्चु ६४) । करडही ली [दे] शुष्क-वृक्ष, सूखा पेड़ (दे २, १७) । करक पु [दे करङ्क] १ भिक्षा-पात्र (दे २, ५५, गडड) । २ अशोक-वृक्ष (दे २, ५५) । करक पुन [करङ्क] १ हड्डी, हाड, 'करकल-यभीमणे मसाणम्मि' (सुपा १७५) । २ अस्त्रि-पञ्जर, हाड पञ्जर (उप ७२८ टी) । ३ पानदान, पान बगैरह रखने की छोटी पेटी, 'तमोलकरवाहियीओ' (कप्प) । ४ हड्डियो का ढेर (सुर ६, २०३) । करज सन [भञ्ज] तोड़ना, फोड़ना, टुटवा करना । करजड (हे ४, १०६) । करज पु [करज] वृक्ष विशेष, करिजा (परण १, दे १, १३, गा १२१) । करज पु [दे] शुष्क-स्वप्, सूखी त्वचा (दे २, ८) । करजिअ वि [भञ्ज] तोड़ा हुआ (कुमा) । करड पुन [करण्ड] वंशाकार हड्डी (तट्ट ३५) । करड } पु [करण्ड, °क] १ करण्ड, करडगा } टिप्पा, पेटिका (परह १, ५, करडन) आ १४, ठा ४, ५) । करडिया ली [करण्डिका] छोटा टिप्पा (पापा १, ७, मुपा ४०८) । करटी ली [करणडी] १ टिप्पा, पेटिका (आ १४) । २ कुटी, पात्र विशेष (उप ५६३) । करड्या [दे] मोठे के पान की टोटी (परह १, ८-९, ७=१) । करन [र] कर=र । करन [र] कर=र । करन [र] कर=र ।

हुआ एक साथ द्वय, दध्योवन (पाप्र, दे २, १४, सुपा १३६) । करबिय वि [करन्वित] व्याप्त, खचित (सुपा ३४, गडड) । करकट पु [करकण्ट] इस नाम का एक परिव्राजक, तापस-विशेष (श्रीप) । करकडु पु [करकण्डु] एक जैन महर्षि (महा, पडि) । करकचिय वि [करकचित] करवत आदि से फाटा हुआ (अणु १५४) । करकड वि [दे, कर्कर कर्कट] १ कठिन, पत्थ (उवा) । करकडी ली [दे करकटी] चिथडा, निन्दनीय वृक्ष-विशेष, जो प्राचीन काल में वध्य पुख को पहनाया जाता था (विपा १, २-पत्र २४) । करकय पु [करकच] करपत्र, करात, आरा (परण १, १) । करकर पु [करकर] 'कर-कर' आवाज (एया १, ६) । °रुठ पुन [शुण्ड] वृण-विशेष (परह १-पत्र ४०) । करकरिया पु [करकरिक] ग्रह-विशेष, ग्रहाधि-ष्टायक देव-विशेष (ठा २, ३-पत्र ७८) । करग देखो करग = कारक (एदि ५०) । करग पु [करक] १ करका, शोला (आ २०, श्रोव ३४३, जी ५) । २ पानी की कलशी, जल पात्र (अनु ५, आ १६, सुपा ३३६, ३६४) । देखो करय = करक । करगय देखो करकय (स ६६६) । करगह देखो कर-गह (सम्पत् १७३) । करघायल पु [दे] किलाट, दूध की मलाई (दे २, २२) । करन्त्रोडिया ली [दे] ताली, ताल (सुव २, १५) । करट्ट पु [दे] अपवित्र अन्न को खानेवाला ब्राह्मण (भुच्छ २०७) । करट्ट पु [करट] १ काक, कौआ (उर १, १४) । २ हाथी का गण्ड-स्थल (मुपा १३६, पाप्र) । ३ वायु-विशेष (विक्र ८७) । ४ वृमुम्भ वृज । ५ करीर-वृक्ष । ६ गिरगिट, नरट । ७ पाखडी, नास्तिक । ८ श्राद्ध-विशेष (दे २, ५५ टी) ।

करड पु [दे] १ व्याघ्र, शेर । २ वि, कबरा, चितकबरा (दे २, ५५) । करडा ली [दे] लट्वा—१ एक प्रकार का करज वृक्ष । २ पक्षि विशेष, चटक । ३ अमर, भौरा । ४ वायु-विशेष (दे २, ५५) । करडि पु [करटिन्] हाथी, हस्ती (सुर २, ६६, सुपा ५०, १३६) । करडी ली [दे, करटी] वायु-विशेष, 'अहुसयं करडीण' (ज २) । करडुयभत्त न [दे] श्राद्ध-विशेष (पिड) । करण न [करण] १ इन्द्रिय (सुर ४, २३६, कुमा) । २ आसन, पचासन बगैरह (कुमा) । ३ अधिकरण, आश्रय (कुमा) । ४ कृति, क्रिया, विधान (ठा ३, ४, सुर ४, २४५) । ५ कारक-विशेष, साधकतम (ठा ३, १; विसे १६३६) । ६ उपाधि, उपकरण (श्रोव ६६६) । ७ न्यायालय, न्याय-स्थल (उप पृ ११७) । ८ वीर्य-स्फुरण (ठा ३, १-पत्र १०६) । ९ ज्योति-शाला प्रसिद्ध वन-नालवादि करण (सुर २, १६५) । १० निमित्त, प्रयोजन (आचू १) । ११ जेल, कैदखाना (भवि) । १२ वि, जो किया जाय वह (श्रोव २, भा ३) । १३ करनेवाला (कुमा) । °हिवइ पु [°धिपति] जेल का अध्यक्ष (भवि) । °साला ली [°शाला] न्यायालय (दस० वृ० हारि० पत्र १०८, २) । करणया ली [करणता] १ अनुष्ठान, क्रिया । २ संयमानुष्ठान (एया १, १-पत्र ५०) । करणसाला ली [करणशाला] न्याय मन्दिर (दस ३, १ टी) । करणि ली [दे] क्रिया, कर्म (अणु १३७) । करणि ली [दे] १ रूप, आकार (दे २, ७; सुपा १०५, ४७५, पाप्र) । २ सादृश्य, समानता (अणु) । ३ अनुकरण, नकल करना (गडड) । ४ स्वीकार, अगीकार (उप पृ ३५) । करणिञ्ज देखो कर = कृ । करणिञ्ज वि [दे] समान, सदृश, 'मयणजमल-तोणीरकरणिल्लेण पयामथोरेण निरतरेण च ऊल्लयुलेण' (स ३१२), 'वधुयकरणिल्लेण सहावाण्येण अहेण' (स ३१२) । करणीअ देखो कर = कृ ।

किजकख पु [दे] शिरीष-वृक्ष, सिरस का पेड़ (दे २, ३१)।

किणोद (शौ)। अ [किमिदम्, किमेतत्] यह क्या ? (पद्, कुमा)।

किंतु अ [किन्तु] परन्तु, लेकिन (सुर ४, ३७)।

किंशुगघ देखो किंसुगघ (राज)।

किंदिय न [किन्द्र] १ बर्तुल का मध्य-स्थल। २ ज्योतिष में इष्ट लगन से पहला, चौथा, सातवाँ और दसवाँ स्थान, 'किंदियठाणट्टिय-गुरुमि' (सुपा ३६)।

किट्टुअ पु [कन्दुक] कन्दुक, गेंद (भवि)।

किंधर पुं [दे] छोटी मछली (दे २, ३२)।

किन्तर पु [किन्तर] १ व्यन्तर देवों की एक जाति (पह १, ४)। २ भगवान् धर्मनाथ जी के शासनदेव का नाम (सति ८)। ३ चमरेन्द्र की रथ-सेना का अधिपति देव (ठा ५, १)। ४ एक इन्द्र (ठा २, ३)। ५ देव-गन्धर्व, देव-गायक (कुमा)। °कठ पुं [°कण्ठ] किन्तर के काण्ठ जितना बड़ा एक मण्डि (जीव ३)।

किन्नरी स्त्री [किन्नरी] किन्नर देव की स्त्री (कुमा)।

किन्तु अ [किन्तु] पूर्वपक्ष, आलेप, आशका का सूचक अव्यय (वव १)।

किपय वि [दे] कूपण, कपूस (दे २, ३१)।

किपाग पु [किम्पाक] १ वृक्ष-विशेष, 'हुति मुहि चिय महुरा विसया किपागभूहहफलं व' (पुष्प ३६२, श्रौष)। २ न उत्सका फल, जो देखने में और स्वाद में सुन्दर, परन्तु खाने में प्राण का नाश करता है, 'किपागफलोवमा विसया' (सुर १२, १३८)।

किपि अ [किमपि] कुछ भी (प्रासू ६०)।

किपुरिस पु [किपुरुप] १ व्यन्तर देवों की एक जाति (पह १, ४)। २ एक इन्द्र, किन्नर-निकाय के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३)। ३ वेरोचन बलोन्द्र की रथसेना का अधिपति देव (ठा ५, १—अत्र ३०२)। °कठ पु [°कण्ठ] मण्डि की एक जाति, जो किपुरुप के काण्ठ जितना बड़ा होता है (जीव ३)।

किबोड वि [दे] स्वलित, गिरा हुआ, भुला हुआ (२, ३१)।

किमज्ज वि [किमध्य] असार, नि सार (पह २, ४)।

किमयती स्त्री [किमदन्ती] जनश्रुति, जनरव (हम्मीर ३६)।

किसारु पु [किशारु] सस्य-शूक, सस्य का तीक्ष्ण अग्र भाग (दे २, ६)।

किसुगघ न [किस्तुघ्न] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण (विते ३३५०)।

किंसुअ पुं [किशुक] १ पलाश का पेड़, टेसू, ढाक (सुर ३, ४६)। २ न पलाश का पुष्प (हे १, २६, ८६)।

किक्किडि पुं [दे] सर्प, साँप (दे २, ३२)।

किक्किधा स्त्री [किक्किन्धा] नगरी विशेष (से १४, ५५)।

किक्किधि पु [किक्किन्धि] १ पर्वत-विशेष (पउम ६, ४५)। २ इस नाम का एक राजा (पउम ६, १५४, १०, २०)। °पुर न [°पुर] नगर विशेष (पउम ६, ४५)।

किच्च वि [कृत्य] १ करने योग्य, कर्तव्य, फरज (सुपा ४६५, कुमा)। २ बन्धनीय, पूजनीय, 'न पिदुयो न पुरयो नेव किच्चाण पिदुयो' (उत्त ३)। ३ पु गृहस्थ (सूअ १, १, ४)। ४ न शास्त्रोक्त अनुष्ठान, क्रिया, कृति (आचा २ २, २, सूअ १, १, ४)।

किच्चत वि [कृत्यमान] १ छिन्न किया जाता, काटा जाता। २ पीड़ित किया जाना, मत्तया जाता (राज)।

किच्चण न [दे] प्रसालन, धोना, 'हरिअच्छेयण छपइयचच्छण किच्चण च पोत्ताण' (श्रौष १६८—पन ७२)।

किच्चा स्त्री [कृत्या] १ काटना, कर्तन (उप ३५६)। २ क्रिया, काम, कर्म। ३ देव वगैरह की मूर्ति का एक भेद। ४ जादूगरी, जाहू। ५ रोग-विशेष, महामारी का रोग (हे १, १२८)।

किच्चा देखो कर = कृ।

किच्चि स्त्री [कृत्ति] १ मृग वगैरह का चमड़ा। २ चमड़े का कर्म। ३ नृजपत्र, नोजपत्र। ४ कृत्तिका नक्षत्र (हे २, १२, ८६, पद्)।

°पाउरण पु [°प्रावरण] महादेव, शिव (कुमा)।

°हर पु [°धर] महादेव, शिव (पद्)।

किच्चिर अ [कियच्चिरम्] कितने समय तक, कब तक ? (उप १२८ टी)।

किच्चु न [कुच्चु] १ दुस कष्ट (ठा ५, १)। २ वि कष्ट-साध्य, कष्ट-युक्त (हे १, १२८)। ३ किच्चि दुस से, मुश्किल से (सुर ८, १४८)।

किच्च वि [क्रोच] खरोदने योग्य, 'अस्त्रिच्च किच्चमेव वा' (दस ७)।

किच्चत देखो कि = कृ।

किच्चअ वि [कृत] किया गया, निर्मित (पिंग)।

किच्च सक [कीर्त्तय] १ श्लाघा करना, स्तुति करना। २ बर्णन करना। ३ कहना, बोलना। किच्चइ, किच्चेइ (आचा, भाग)। पद् किच्चमाण (पि २८६)। सद्ध किच्चइत्ता, किच्चित्ता (उत्त २६, कण्)। हेइ किच्चिण (कस)।

किच्च स्त्री [किच्च] १ घातु का मन, मंत्र (उप ५३२)। २ रग-विशेष (उर ६, ५)। ३ तेल, घी वगैरह का मसै। स्त्री °द्वी (पमा ३३)।

किच्चण देखो किच्चण (वह ३)।

किच्चि स्त्री [किच्चि] १ श्लोकरण विशेष, विभाग-विशेष, 'अपुञ्जवित्तोद्दीप्य अणुभाणोणुण-राविमयण किच्चि' (पच १२, प्रावम)।

किच्चिय वि [कीर्त्तित] १ बर्णन, प्रशंसित (सूअ २, ६)। २ प्रतिपादित, कथित (सूअ २, २, ठा ७)।

किच्चिया स्त्री [कीर्त्तिका] बान्धन विशेष (पण १, भाग ७, २)।

किच्चिस न [किच्चिम्] १ रानी नरमा, तिन आदि का तिन रहित चूर्ण (अणु)। २ एक प्रकार का मृत, नूला (अणु, धायम)।

किच्चिस न [किच्चिस] १ जन धारि ग वारा वचा हुआ शंश। २ उतते बना हुआ नृम। ३ जन, कौट के वान आदि की विनाश का नूत (अणु ३४)।

किच्चि देसो किच्च = किच्च।

किच्चिअ वि [किच्चिअ] आनन म निरः टूटा, एगनाग, अउ मुवर्ण धारि का किच्चि

करिसिय—कलकल

करिसिय वि [कृशित] दुर्बल किया हुआ
(सूत्र १, ३)।

करीर पु [करीर] वृक्ष-विशेष, करीर, करील
(उप ७२८ टी, आ १६, प्रासू ६२)।

करीस पु [करीप] जलाने के लिए सुखाया
हुआ गोबर, कडा, गोडठा (हि १, १०१)।

करुण देवो मनुष्य (स्वप्न ५३, सुपा २१६),
'उत्कृष्ट उदारभाव दक्षिण करुण्य व
श्रापुयइ' (गडड)।

करुणा स्त्री [करुगा] दया, दूसरे के दुःख को
दूर करने की इच्छा (गडड, कुमा)।

करुणाडय वि [करुणायित] जिसपर करुणा
की गई हो वह (गडड)।

करुणि नि [करुणिन्] करुणा करनेवाला,
दयालु (मण)।

करे गक [करय्] कराना। करेइ (प्राक
६०)।

करेअन्व } देखो कर = कृ।
करेत }

करेडु पु [दे] कुरुलाम, गिरगिट, सरट (दे
२, ५)।

करेणु पु [करेणु] १ हस्ती, हाथी। २ कनेर
या गाड़, 'एसो करेणु' (हे २, ११६)। ३
श्री हन्मिनी हयिनो (हे २, ११६, शाया १,
'०' सुर ८, १३६)। ४ दत्ता स्त्री [०दत्ता]
महान् चक्रवर्ती की एक स्त्री (उत्त १३)।
५ मेणा स्त्री [०सेना] देखो पूर्वोक्त अर्थ
(उत्त १३)।

करेणुआ स्त्री [करेणु] हस्तिनी, हयिनी
(पाप महा)।

करेमाण } देतो कर = कृ।
करेअन्व }

करेमाहिय वि [करमाहित] राज-कर में
पाँच, मत्स्य में हेरान (श्रीप)।

करेडु पु [दे] १ नाखिल, नाखिल। २
बार, रीषा। ३ वृषभ, बैल (दे २, ५४)।

करेडुग पु [दे] पात्र-विशेष, कटोरा (निड्ड
१)।

करेडि गो [करेडि] मिर गो हड्डे (सुब,
२, २९)।

करेडिग पु [करेडिग] पापान्त, निरुक्त-
मिण (शाया १, ८—पत्र १५०)।

करोडिया } स्त्री [करोटिका, ०टी] १ कुडा,
करोडी } बड़े मुँह का एक पात्र, कास्य-
पात्र-विशेष (श्राणु, दे ७, १५, पात्र)। २

स्थगिका, पानदान (शाया १, १ टी—पत्र
४३)। ३ मिट्टी का एक तरह का पात्र
(श्रीप)। ४ कपाल, भिक्षा-पात्र (शाया १,
८)। ५ परोसने का एक उपकरण (दे, २,
३८)।

करोडी स्त्री [दे] एक प्रकार की चीटी, शुद्र-
जन्तु विशेष (दे २, ३)।

करोडी स्त्री [दे] मुरदा, शव (कुप्र १०२)।

कल सक [कलय्] १ सत्या करना। २
आवाज करना। ३ जानना। ४ पहिचानना।

५ सबन्ध करना। कलइ (हे ४, २५६,
षड्)। कलयति (विसे २०२६)। भवि
कलइम्स (पि ५३३)। कर्म कलिजए (विसे
२०२६)। वक कलयत (सुपा ४)। कवक
कलिज्जत (सुपा ६४)। सक कलिऊण,
कलिअ (महा, अमि १८२)। क कलिणज्ज,
कलगीअ (सुपा ६२२, पि ६१)।

कल वि [कल] १ मधुर, मनोहर (पात्र)। २
पुं अर्थक मधुर शब्द (शाया १, १६)। ३
कोलाहल, कलकल (चद १६)। ४ कर्दम,
कीचड, कादो (भत १३०)। ५ धान्य-विशेष,
गोल चना, मटर (ठा ५, २)। ६ कठी स्त्री
[०कण्ठी] कोकिला, कोयल (दे २, ३०,
कप्पू)। ७ मजुल वि [०मजुल] शब्द
से मधुर (पात्र)। ८ यठ पु [०कण्ठ] कोकिल,
कोयल (कुमा)। ९ यठी देखो ०कण्ठी (सुर
४, ४८)। १० हस पुं [०हस] एक पक्षी,
राज-हंस (कप्प, गडड)।

कलक पु [कलक] १ वाग, बोप (प्रासू ६४)।
२ लाठ्यन, चिह्न (कुमा, गडड)।

कलक सक [कलक] कलकित करना।
कलकइ (भवि)। क. कलकियञ्च (सुपा ४४८,
५८१)।

कलक पुं [दे] १ बाँस, वश (दे २, ८)।
२ वाम की वनाई हुई बाड़ (शाया १, १८)।

कलकण न [कलकण] कलकित करना
(पव ८)।

कलकल वि [कलकल] अममजम, अशुभ
(श्रीप, सया)।

कलकलीभागि वि [कलकलीभागिन्] दुःख-
व्याकुल (सूत्र २, २, ८१, ८३)।

कलकलीभाव पु [कलकलीभाव] १ दुःख
से व्याकुलता। २ ससार-परिभ्रमण (आचा
२, १६, १२)।

कलकवई स्त्री [दे] वृत्ति, बाड़, काटे आदि से
परिच्छन्न स्थान-परिवि (दे २, २४)।

कलकिवि वि [कलकित] कलकित, दागी (हे
४, ४३८)।

कलकिल्ल वि [कलकिल्ल] कलकवाला, दागी
(काल, पि ५६५)।

कलतर न [कलतर] व्याज, सूद (कुप्र
३५५)।

कलड पु [कलन्द] १ कुराड, कुराडा, रग-
पात्र (उवा)। २ जाति से श्रायं एक प्रकार
के मनुष्य (ठा ६—पत्र ३५८)।

कलन पु [कदम्ब] १ वृक्ष-विशेष, नीप,
कदम का गाछ (हे १, ३०, २२२, गा ३७,
कप्पू)। २ चौर न [०चौर] शत्रु-विशेष
(विपा १, ६—पत्र ६६)। ३ चौरिया स्त्री
[०चौरिका] वृष-विशेष, जिसका अग्र भाग
अति तीक्ष्ण होता है (जीव ३)। ४ वालुया
स्त्री [०वालुका] १ कदम्ब के पुष्प के आकार-
वाली धूली। २ नरक की नदी, 'कलववा-
नुयाए दडुपुवो अणतसो' (उत्त १६)।

कलवु स्त्री [दे] वल्ली विशेष, नालिका (दे
२, ३)।

कलवुअ न [कदम्बक] कदम्ब-वृक्ष का पुष्प,
'वाराहयकलवुअ पिव समुत्ससियरोमकूवे'
(कप्प)।

कलवुआ [दे] देखो कलवु (पराण १,
सुज ४)।

कलवुआ स्त्री [कलवुका] १ कदम्ब पुष्प
के समान मास-गोलक। २ एक गाँव का नाम,
जहाँ पर भगवान् महावीर को कालहस्ती
ने सताया था (राज)।

कलवुगा स्त्री [कलवुका] जल में होनेवाली
वनस्पति की एक जाति (सूत्र २, ३, १८)।
कलवुय पु [कदम्बक] कदम्ब-वृक्ष (सुज
१६)।

कलकल पु [कलकल] १ कोलाहल, कल-
कलरव (आ १४)। २ व्यक्त शब्द, स्पष्ट

कित्तय वि [कीर्तक] कीर्तन-कर्ता (पत्र २१६ टी)।

कित्तचोरिअ देखो कत्तवीरिअ (ठा ८)।

कित्ता देखो किष्ठा = कृत्या (प्राकृ ८)।

कित्ति स्त्री [कीर्त्ति] १ यश, कीर्त्ति, सुख्याति (श्रौप, प्रासू ४३, ७४, ८२)। २ एक विद्या-देवी (पत्रम ७, १४१)। ३ वेसरि-द्रह की अघिष्ठात्री देवी (ठा २, ३—पत्र ७२)। ४ देव-प्रतिमा-विशेष (याया १, १ टी—पत्र ४३)। ५ श्लाघा, प्रशंसा (पत्र ३)। ६ नीलवन्त पर्वत का एक शिखर (ज ४)। ७ सौधर्म देवलोको की एक देवी (निर)। ८ पुं इस नाम का एक जैन मुनि, जिसके पास पाँचवें बलदेव ने दीक्षा ली थी (पत्रम २०, २०५)। ९ कर वि [कर] १ यशस्कर, स्थापित-कारक (याया १, १)। २ पु भगवान् आदिनाथ के एक पुत्र का नाम (राज)। ३ च्द पु [चन्द्र] नृप-विशेष (धम्म)। ४ धम्म पुं [धर्म] इस नाम का एक राजा (दस)। ५ धर पु [धर] १ नृप-विशेष (तट्ट)। २ एक जैन मुनि, दूसरे बलदेव के गुरु (पत्रम २०, २०५)। पुरिस पु [पुरुष] कीर्त्ति-प्रधान पुरुष, वासुदेव वगैरह (ठा ६)। ६ म वि [मत्] कीर्त्ति-युक्त। ७ मई स्त्री [मती] १ एक जैन साध्वी, (भाक)। २ ब्रह्मवत् चक्रवर्ती की एक स्त्री (उत्त १३)। ८ द वि [द] कीर्त्ति-कर, यशस्कर (श्रौप)।

कित्ति स्त्री [कृत्ति] चर्म, चमड़ा, 'कुत्तो अम्हाए वग्घकित्तीय' (काप्र ८६३, गा ६४०, वज्जा ४४)।

कित्तिम वि [कृत्तिम] बनावटी, नकली (सुवा २४, ६१३)।

कित्तिय वि [कीर्त्तित] १ उक्त, कथित, 'कित्तियवदियमहिआ' (पडि)। २ प्रशंसित, श्लाघित (ठा २, ४)। ३ निहयित, प्रति-पादित (तट्ट)।

कित्तिय वि [कियत्] कितना (गठड)।

किन्न वि [किन्न] प्रादं, गीला (हे ४, ३२६)।

किन्ह देखो कण्ह (कप्प)।

किपाड वि [दे] स्वलित, गिरा हुआ (पट्ट)।

किच्चिस न [कित्चिप] १ पाप, पातक (पएह १, २)। २ मास, 'निगय च से वीयपासेणं किच्चिस' (त २६३)। ३ पुं-चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति (भाग १२, ५)। ४ वि मलिन। ५ अधम, नीच (उत्त ३)। ६ पापी, दुष्ट (धर्म ३)। ७ कर्तुर, चितकवरा (तट्ट)।

किच्चिसिय पु [कित्चिपिक] १ चाण्डाल-स्थानीय देव-जाति (ठा ३, ४—पत्र १६२)। २ केवल वेपधारी साधु (भाग)। ३ वि अधम, नीच (सूअ १, १, ३)। ४ पाप-फल को भोगनेवाला दरिद्र, पणु वगैरह (याया १, १)। ५ भाएड-चेष्टा करनेवाला (श्रौप)।

किच्चिसिया स्त्री [कैत्विपित्री] १ भावना-विशेष, धर्म-गुरु वगैरह की निन्दा करने की श्रावत (धर्म ३)। २ केवल वेप-धारी साधु की वृत्ति (भाग)।

किम्म (अप) अ [कथम] क्यों, कैसे? (हे ४, ४०१)।

किम्मण देखो किम्मण (भाचा)।

किम्मस्स पु [किम्मश्च] नृप-विशेष, जिसने इन्द्र को संग्राम में हराया था और शाप लगने से जो मरकर अजगर हुआ था (निच्च १)।

किमी पु [कृमि] १ क्षुद्र जीव, कीट-विशेष (पएह १, ३)। २ पेट में, फुलसी में और बवासीर में उत्पन्न होनेवाला जन्तु-विशेष (जी १५)। ३ द्विन्द्रिय कीट-विशेष (पएह १, १—पत्र २३)। ४ य न [ज] कृमि-तन्तु से उत्पन्न वस्त्र, 'कोसेज्जपट्टमाई ज, किमिय तु पवुच्चइ' (पचमा)। ५ राग, राय पु [राग] किरमिजी का राग (कम्म १, २०, दे २, ३२, पएह २, ४)। ६ रासि पु [राशि] चनस्पति विशेष (पएण १—पत्र ३६)।

किमिधरवसण [दे] देखो किमिहरवसण (पट्ट)।

किमिच्छय न [किमिच्छक] इच्छानुसार दान (याया १, ८—पत्र १५०)।

किमिण वि [कृमिमत्] कृमि-युक्त, 'किमिणबहुदुरभिगघेसु' (पएह २, ५)।

किमिराय वि [दे] ताका से रक्त (दे २, ३०)।

किमिहरवसण न [दे] कोशेष-वत्स, रेखनी वत्स (दे २, ३३)।

किमु अ [किमु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्रश्न। २ वितर्क। ३ निन्दा। ४ निरोध (हे २, २१७, पिग)।

किमुय अ [किमुत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्रश्न। २ विकल्प। ३ वितर्क। ४ अतिशय (हे २, २१८), 'अमरतरापमहिंय ति पुदय तेहि, किमुय सेमेहि' (विसे १०६)। किम्मिय न [दे किम्मित] जबता, जाण (राज)।

किम्मोर वि [किर्मोर] १ कर्तुर कवरा (पात्र)। २ पु राक्षस-विशेष, जिसरो भीमसेन ने मारा था (वेणी ११७)। ३ बंध-विशेष, 'जाया किम्मोरवसे' (रमा)।

किय देखो कीय (पिड ३०६)।

कियत् वि [कियत्] किरतना (समत्त २२८)।

कियत्थ देखो कयत्थ (अवि)।

कियत्थ देखो कडअव (उप ७२८ टी)।

किया देखो किरिया, 'हय नाए कियाहीण' (हे २, १०५), 'मग्गणुसारी मढो पल वरिण्णो कियावरो वेव' (उप १६६, विसे ३५६३ टी, कप्प)।

कियाडिया स्त्री [दे] कानकट्टी, कान का ऊपरी भाग (वव १)।

कियाण देखो कर = कृ।

कियाणग न [क्रयाणक] निरुता, नमन, मसाला आदि वेचने योग्य चीजें (सुर १, ६०)।

किर पु [दे] सूकर, सूकर (दे २, ३०, पट्ट)।

किर अ [किल] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ संभावना। २ निरुतप। ३ देउ, निश्चित कारण। ४ वाक्ता प्रसिद्ध अर्थ। ५ अरुचि। ६ अनौन, अनत्य। ७ सद्य, सदेह (हे २, १८६, पट्ट, गा १२६, प्राद १७, दस १)। ८ पाद पूर्व में जो इमता प्रयोग होता है (कम्म ४, ७६)।

किर मक [क] १ पंचना। २ पकाए, पेंना। ३ विनरता। ४ किर (हे ६, ५८, ५७)।

किरण पुन [किरण] किरण, रश्मि, प्रन (सुवा ३५१, गठड प्रासू ८२)।

कलाइया—कल

की रीति) । ३२ स्त्री-लक्षण (स्त्री के शुभाशुभ चिह्नों का परिज्ञान) । ३३ पुरुष लक्षण । ३४ श्रवण लक्षण । ३५ गण-लक्षण । ३६ गो-लक्षण । ३७ कुक्कुट-लक्षण । ३८ छत्र लक्षण । ३९ दण्ड लक्षण । ४० अंसि लक्षण । ४१ मण्डि-लक्षण (रत्न-परीक्षा) । ४२ काकण-लक्षण (रत्न विशेष की परीक्षा) । ४३ वास्तुविद्या (गृह बनाने और सजाने की रीति) । ४४ स्कन्धावार मान (सैन्य परिमाण) । ४५ नगर-मान । ४६ चार (ग्रह-चार का परिज्ञान) । ४७ प्रतिचार (ग्रहों के वक्र-गमन और रह का ज्ञान, श्रयवा रोगप्रतीकार ज्ञान) । ४८ व्यूह (सैन्य रचना) । ४९ प्रतिव्यूह (प्रतिद्वन्द्व व्यूह) । ५० चक्र व्यूह । ५१ गड्ड-व्यूह । ५२ शकट व्यूह । ५३ युद्ध (महान-युद्ध) । ५४ नियुद्ध । ५५ युद्धातिरुद्ध (खड्गादि शस्त्र में युद्ध) । ५६ दृष्टि युद्ध । ५७ मुष्टि-युद्ध । ५८ वाह्य युद्ध । ५९ लता युद्ध । ६० पशु-शास्त्र (द्विधा सूचक शास्त्र) । ६१ वन्य-प्रपात (उडग शिक्षा शास्त्र) । ६२ धनुर्वेद । ६३ द्विरेण्य पाक (चाँदी बनाने की रीति) । ६४ मुवर्ण पाक । ६५ सूत्रक्रीडा (एक ही सूत्र को अनेक प्रकार कर दिखाना) । ६६ वन्य क्रीडा । ६७ नालिका खेल (यूत-विशेष) । ६८ पत्र-च्छेद्य (अनेक पत्रों में श्रयुक्त पत्र का छेदन, हस्त-लाघव) । ६९ गट-च्छेद्य (गट की तरह क्रम में छेद करने का ज्ञान) । ७० सजीव (मरी हुई घातु को फिर श्रमल बनाना) । ७१ निर्जीव (घातु-मारण, रमायण) । ७२ शकुन-स्त (शकुन-शास्त्र) । (जं ० टी, सम ८३) । गुरु पु [गुरु] ज्ञानाचार्य, विद्याध्यापक, शिक्षक (मुग २५) । शरिय पु [चार्य] देखो पूर्वोक्त शब्द (खाया १, १) । वई स्त्री [वनी] ? वनानाली स्त्री । २ एक पतिगता स्त्री (वा ३३८, पटि) । मवणग न [सवर्ण] संख्या विशेष (ठा १०) ।

रनाइआ नि [रनाचिक] प्रबोध, कोनी से रेर मण्डिग तत ता रनावयव (पात्र) । रनाग पु [रनाग] मोनार, मुवर्णार (परह १, २ खाया १, ८) ।

रनाग पु [रनाग] धान्य विशेष, गोन चना, मट्ट (ठा ३, ५, पनु ५) ।

कलाव पु [कलाप] ? समूह, जल्य (हे १, २३१) । २ मयूर-पिच्छ (सुपा ४८) । ३ शरधि, तूण, जिसमें बाण रक्खे जाते हैं (दे २, १५) । ४ करण का आभूषण (श्रौष) । कलावग न [कलापक] ? चार श्लोको की एक वाक्यता । २ श्रौवा का एक आभरण (परह २, ५) ।

कलावय न [कलापक] चार पत्रों की एक वाक्यता (सम्मत १८७) ।

कलावि पुत्री [कलापिन] मयूर, मोर (उप ७२८ टी) ।

कलि पु [कलि] एक नरकावास (देवेन्द्र २६) ।

कलि पु [कलि] ? कलह, भगडा (कुमा, प्रासू ६४) । २ युग-विशेष, कलि युग (उप ८३३) । ३ पर्वत विशेष (ती ५४) । ४ प्रथम भेद (निचू १५) । ५ एक, अनेला (सूत्र १, २, २, भग १८, ४) । ६ दुष्ट पुरुष, दुष्टो कली (पात्र) । ७ ओग, ७ ओय पु [ओज] युग्म-राशि विशेष (भग १८, ४, ठा ४, ३) । ७ ओयकडजुम्म पु [ओज-कृतयुग्म] युग्म-राशि विशेष (भग ३४, १) । ७ ओयकलिओय पु [ओजकल्योज] युग्म-राशि विशेष (भग ३४, १) । ७ ओजते-ओय पु [ओजज्योज] युग्म राशि विशेष (भग ३४, १) । ७ ओयदावरजुम्म पु [ओजद्वारपरयुग्म] युग्म-राशि-विशेष (भग ३४, १) । ७ कुड न [कुण्ड] तीर्थ-विशेष (ती १५) । ७ जुग न [युग] कलि-युग (ती २१) ।

कलि पु [दे] शत्रु, दुश्मन (दे २, २) ।

कलिअ वि [कलिन] ? युक्त, सहित (परह १, २) । २ प्राप्त, गृहीत । ३ ज्ञात, विदित (दे २ ५६, पात्र) ।

कलिअ देखो कल = कल्य ।

कलिअ पु [दे] ? नकुल, न्योला, नेवला । २ वि गवित, गर्व युक्त (दे २, ५६) ।

कलिआ स्त्री [दे] सली, चहेली (दे २, ५६) । कलिआ स्त्री [कलिका] अविकसित पुष्प, कली (पात्र, गा ४४२) ।

कलिआ पु [कलिङ्ग] ? देश विशेष, यह देश उलोना में दक्षिण की ओर गोदावरी के मुहाने पर है (पत्रम ६८, ६७, श्रौष ३० भा.

प्रासू ६०) । २ कलिग देश का राजा (पिंग) । कलिग पु [कलिङ्ग] भगवान् आदिनाथ का एक पुत्र (ती १४) ।

कलिच देखो किलिच (गा ७७०) ।

कलिङ्ग पु [कलिङ्ग] कट, चटाई (निचू १७) ।

कलिङ्ग न [दे] छोटी लकड़ी (दे २, ११) ।

कलिव पुन [कलिम्ब] ? बंस का पात्र-विशेष, 'कलिवो वसकप्परो' (गच्छ २) । २ सूखी लकड़ी (भग ८, ३) ।

कलित्त न [कटित्र] कमर पर पहना जाता एक प्रकार का चर्म मय कवच (खाया १, १, श्रौष) ।

कलिम न [दे] कमल, पत्र (हे २, ६) ।

कलिमल देखो कलामल = कलकल (तदु ४१) ।

कलिल वि [कलिल] गहन, घना, दुर्भेद्य (पात्र) ।

कलुण वि [करुण] ? दीन, दया-जनक, कृपा-पात्र (हे १, २५४, प्रासू १२६, सुर २, २२६) । २ पु साहित्य शास्त्र-प्रसिद्ध नव रसों में एक रस (अणु) ।

कलुणा देखो करुणा (राज) ।

कलुस वि [कलुष] ? मलिन, अस्वच्छ, 'कलिकलुस' (विपा १, १, पात्र) । २ न पाप, दोष, मैल (स १३२, पात्र) ।

कलुसिअ वि [कलुपित] पाप-ग्रस्त, मलिन (से १०, ५, गड्ड) ।

कलुसीक्य वि [कलुषीकृत] मलिन किया हुआ (उव) ।

कलेर पु [दे] ? ककाल, अस्थि-मण्डल । २ वि कराल, भयानक (दे २, ५३) ।

कलेवर न [कलेवर] शरीर, देह (आच ४८, पिंग) ।

कलेसुय न [कलेसुक] तृण-विशेष (सूत्र २, २) ।

कलोवाइ स्त्री [दे] पात्र-विशेष (आचा २, १, २, १) ।

कल्ल न [कल्य] ? कल, गया हुआ या आगामी दिन (पात्र, खाया १, १, दे ८, ६७) । २ शब्द, आवाज । ३ सत्या, गिनती (विमे ३४४२) । ४ आरोग्य, निरोगता, 'कल्ल किलाखग' (विसे ३४३६) । ५ प्रभात, मुत्रह (अणु) । ६ वि निरोग, रोग रहित

किलीण देखो किलिण (भवि) ।
 किलीय देखो कीव (स ६०) ।
 किलेस अक [क्लिश्] क्लेश पाना, हैरान होना । किलेसइ (प्राक् २७) ।
 किलेस पु [क्लेश] १ खेद, थकावट (श्रौप) । २ दु ख, पीडा, बाधा (पउम २२, ७५, सुख २०) । ३ दु ख का कारण । ४ कर्म, शुभा-शुभ-कर्म (बृह १) । ५ यर वि [क्लर] क्लेश जनक (पउम २२, ७५) ।
 किलेसिय वि [क्लेशित] दु खी किया हुआ (सुर ४, १६७, १६९) ।
 किल्ला देखो किड्डा (मं ६१) ।
 किच पुं [कृप] १ इस नाम का एक ऋषि, कृपाचार्य (हे १, १२८), 'भाइसयसमभग गयेयं विदुर दोण जयइहं ससणी कीवं (१ सर्णिण किव) आगत्यामं' (णाय १, १६—पत्र २०८) ।
 किवें (अप) देखो कह (कुमा) ।
 किवण वि [कृपण] १ गरीब, रक, दीन (सूत्र १, १, ३, अच्यु ६७) । २ दरिद्र, निर्धन (पएह १, २) । ३ कबूत, अदाता (दे २, ३१) । ४ क्लीब, कायर (सूत्र २, २) ।
 किवा स्त्री [कृपा] दया, मेहरबानी (हे १, १२८) । ५ वन्न वि [पत्र] कृपा-प्राप्त, दयालु (पउम ६५, ४७) ।
 किवाण पुंन [कृपाण] खड्ग, तनवार (सुपा १५८, हे १, १२८, गडड) ।
 किवालु वि [कृपालु] दयालु, दया करनेवाला (पउम ३४, ५०, ६७, २०) ।
 किविड न [दे] १ खलिहान, अन्न साफ करने का स्थान । २ वि खलिहान में जो हुआ हो वह (दे २, ६०) ।
 किविडी स्त्री [दे] १ किवाड, पारवें द्वार । २ घर का पिछला आंगन (दे, २, ६०) ।
 किविण देखो किवण (हे १, ४६, १२८, गा १३६, सुर ३, ४४, प्राप् ५१, पएह १, १) ।
 किनीडजोणि पुं [कृपीटयोनि] अग्नि (सम्मत २२६) ।
 किस सक [क्रियाय] हसित करना, अपचित करना । किसए (सूत्र १, २, १, १४) ।
 किस वि [कृश] १ दुबल, निर्बल (उवर ११३) । २ पतला (हे १, १२८, ठा ४, २) ।

किसग वि [कृशाङ्ग] दुबल शरीरवाला (गा ६५७) ।
 किसर पुं [कृशर] १ पक्वान्न-विशेष, तिल, चावल और दूध की बनी हुई एक खाद्य चीज । २ खिचडी, चावल और दाल का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२८) ।
 किसर देखो केसर 'महमहिअदसणकिसर' (हे १, १४६) ।
 किसरा स्त्री [कृशरा] खिचडी, चावल-दाल का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२८, दे १, ८८) ।
 किसल देखो किसलय (हे १, २६६, कुमा) ।
 किसलइय वि [किसलयित] अकुरित, नये अकुरवाला (सुर ३, ३६) ।
 किसलय पुन [किसलय] १ नूतन अकुर (आ २०) । २ कोमल पत्ता (जी ६), 'सन्वोवि किसलओ खलु उगममाणो आणतओ भणिओ' (पएण १) । ३ माला स्त्री [माला] छन्द-विशेष (अजि १६) ।
 किसा देखो कासा (हे १, १२७) ।
 किसाणु पु [कृशानु] १ अग्नि, वहि, घ्राण । २ वृक्ष-विशेष, चित्रक वृक्ष । ३ तीन की सख्या (हे १, १२८, पड्) ।
 किसि स्त्री [कृपि] खेती, चास (विसे १६१५, सुर १५, २००, प्राप्) ।
 किसिअ वि [कृशित] दुबलता-प्राप्त, कृशता-युक्त (गा ४०, वजा ४०) ।
 किसिअ वि [कृपित] १ विलखित, रखा किया हुआ । २ जोता हुआ, कृष्ट । ३ खीचा हुआ (हे १, १२८) ।
 किसीवल पु [कृपीवल] कपक, किसान, 'पाय परस्स धन्न भन्सति किसीवला पुब्बि' (आ १६) ।
 किसोर पुं [किशोर] बाल्यावस्था के बाद की अवस्थावाला बालक, 'सोहन्निचोरोब्ब युहाओ निग्गओ' (सुपा ५४१) ।
 किसोरी स्त्री [किशोरी] कुमारी, अविवाहिता युवती (णाय १, ६) ।
 किस्स देखो किलिस = किश् । सकृ न्त्स-इत्ता (सूत्र १, ३, २) ।
 किह } देखो कह (आवा, कुमा; भाग ३, २, विहं } णाय १, १७) ।

कीअ देखो कीव (पड्, प्राप्) ।
 कीइस वि [कीइश] कैमा, किस तरह का (स १४०) ।
 कीरुस पु [कीकश] १ कृमि-जन्तु-विशेष । २ न हड्डी, हाड । ३ वि कठिन, कठोर (राज) ।
 कीचअ देखो कीयाग (वेणो १७७) ।
 कीड देखो किड्डु = कीड् । भवि कीडिस्सं (पि २२६) ।
 कीड पु [कीट] १ बीडा, क्षुद्र जन्तु (वग) । २ कीट-विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत २) ।
 कीडइह वि [कीटवत्] कीडावाला, बीड वृक्ष (गडड) ।
 कीडण न [कीडन] खेल, बीडा (सुर १, ११८) ।
 कीडय पु [कीटक] देखो कीड = कीट (गाट सुपा ३७०) ।
 कीडय न [कीटज] कीडे के तलु से उत्पन्न होनेवाला वन्न, वन्न-विशेष (अणु) ।
 कीडा देखो किड्डा (सुर ३, ११६, उवा) ।
 कीडाविद्या देखो किड्डाविद्या (राज) ।
 कीडिया स्त्री [कीटिका] पिपीलिका, चींटी (सुर १०, १७६) ।
 कीडी स्त्री [कीटी] ऊपर देखो (उप १४७ वं दे २, ३) ।
 कीण सक [की] खरीदना, मोन लेना । कीणइ, कीणए (पड्) । भवि कीणिस्सं (पि ५११, ५३४) ।
 कीणास पु [कीनास] यम, जम (पाभ-मुा १८३) । १ गिह [गृह] मृत्, मौत (उ १३६ टी) ।
 कीडिस्स (शौ) देखो कीरिस (प्राट् ८३) ।
 कीय वि [कीन] १ खरीदा हुआ, मोन लिया हुआ (सम ३६, पएह २, १, सुपा ३२५) । २ जैन साधुओं के लिए भिना मा एन पौन (ठा ३, ४) । ३ न, अर्थ, खर्च (अ ३, सूत्र १, ६) । ४ कड, गड वि [कृत्] १ मूल्य देकर लिया हुआ (बृह १) । २ मनु के लिए मोल से बीना हुआ, जैन मनु के लिए भिना-दोष-युक्त वस्तु (पि ३३०) ।

वचित्र—रुसव्य

कचित्र न [कचिक्र] लगाम (पात्र, गुण २१३)।
 कचिजल दगो कचिजल (आना २)।
 कचिचन्द्रु } देतो कश्चन्द्रु (पण २, ५,
 कचिचन्द्रु } आ १४, दे १, २६, जीव ३)।
 कचिदृ दगा कश्च (पण १, ५ ३, ४५)।
 कचिद न [दे] घर का पिछला आंगन (दे २, ६)।
 कचिद्व देगो कश्च (उग ३०३१ टी)।
 कचियच्छु देतो कश्चन्द्रु (म २३६)।
 कचिल पु [दे] धान, कुत्ता (दे २, ६, पात्र)।
 कचिल पु [कचिल] १ चरु-विशेष, भूरा रंग, सामान्य चरु (उग २)। २ गन्ध-विशेष (पण १, ४)। ३ सामान्य मत का प्रवर्तक बुद्धि विशेष (आचम, श्रौच)। ४ एक आहार गरमि (उत्त ८)। ५ एक नामका एक चागु-दे (आमा १, १६)। ६ राहु का पुद्गल-विशेष (गुज २०)। ७ वि भूरा रंग का, मटमेता रंग का (पउम ६, ७०, रो ७, २२)। १ श्री [१] एक आत्मणी का नाम (आर)।
 कचिलडोला श्री [दे कचिलडोला] धुम-जन्तु-विशेष, जिमको गुजराती में 'गजमाकरी' बरतो है (जी १८)।
 कचिलारा देगो कश्चलास, 'तेमुनि हजेज तनि साम्भोनिगिरसिआ पूज' (उग)।
 कचिलिअरि [कचिलित] कचिल रगवाला रिया हुता, भूरे रंग भ रंगित (गउ)।
 कचिल्लुग न [दे] पाण-विशेष, गजारी (वृ ५)।
 कचिम पु [कचिम] १ चरु विशेष, काना-पीना रंग, वादाभी, कृष्ण पीन-मिश्रित चरु। २ रि कचिच चरु-वाला (पात्र, गउ)।
 कचिम १ [क] दान, मय, मरिा (दे २, ५)।
 कचिमा श्री [दे] धर्म-जन्तु, एक प्रकार का रूपा (दे २, ५)।
 कचिमायण पु [कचिमायण] मय विशेष, ए १। १। १। (पण १७—प ५३२)।
 कचिमीगम } पु [कचिमीगम] प्राण
 कचिमीगम } का मय-भाग (शौच, आमा १, १, १।)
 कचिदमिग पु [कचिदमिग] प्राण का मे

अनस्ताव होनेवाली भयकर आवाज करती ज्वाला (अणु १२०)।
 कचिल्लुग देगो कचिल्लुग (उग ८—प ४१७)।
 कचोद देतो कचोय (पिउ २१७)।
 कचोय पु [कचोय] १ कबूतर, पारावत, परेया (गउउ, विपा १, ७)। २ म्लेच्छ देश-विशेष (पउम २७, ७)। २ न कूष्माण्ड, कोहला (भग १५)।
 कचोल पु [कचोल] माल, गण्ड (गुर ३, १२०, हं ४, २६५)।
 कचोशण (मा) नि [कचोशण] धोत्र गरम (प्राकृ १)।
 कच्य न [कच्य] १ कविता, कचिद्व (उग ४, ४, प्राण १)। २ पु गृह-विशेष, शुक्र (गुर ३, ५३)। ३ वि चर्मनीय, श्लाघनीय (हैं २, ७६)। ४ दत्त वि [वन] काष्ठवाला (हैं २, १५६)।
 कच्य न [कच्य] मारा (गुर ३, ५३)।
 कच्यदृ पु [दे] धातक, बला (गच्छ ३, १६)।
 कच्यद्व देतो कच्यद्व (भवि)।
 कच्यदा श्री [कच्यदा] माया (गुण ० नू० पत्र १७५ गूण गा० ३४५ अथ्या० ६ गा० १)।
 कच्यदाउ पु [दे] दक्षिण हस्त, दाहिना हाथ (दे २, १०)।
 कच्यदाउअ नि [दे] काँवर उठानेवाला, वहुँकी से माता होनेवाला (गुण १२१)।
 कच्यदाय पु [कच्यदाय] १ राक्षस, पिशाच (पउम ७, १०, ३२, १५, रा २१३)। २ वि मचना माम मानेवाला (पउम २२, ३५)। ३ माता मानेवाला (पाण)।
 कच्यदाल न [दे] १ कर्म-स्थान, कार्यालय। २ गृह, घर (दे २, ५२)।
 कच्यदक [कच्य] १ छार मारना। २ कसाना, धिमा। ३ मनिन करना। करीति (पण १३)। कच्य कसिजामाण (गुण ६१५)।
 कच्य पु [कच्य] चर्म-मिट्ट, चायुक (पण १, ३, आमा १, २, म २८७)।
 कच्य पु [कच्य] १ मनीषी, कच्य-क्रिया, 'तान-च्येयगर्मा' मुद्र पासाद गुणप्रमुष्ण' (गुण ३८६)। २ मनीषी का परवर (पात्र)। ३ वि. हिंसा, मार डालनेवाला, ठार मारो-

वाता (उग ४, २)। ४ पुंग संसार, भय, जगत् (उत्त ४)। ५ न. कर्म, कर्म-पुद्गल, 'कम्म करा भवो वा करा' (विरो १२२८)।
 कच्य, कच्य पु [कच्य] कनीठी का परवर (अणु, मा ६२६, गुर २, २४)।
 कच्यि पुत्री [कच्यि] सार्ण की एक जाति (पण १)।
 कच्यि श्री [दे] फता विशेष, अरण्यचारी वनरपति का फता (दे २, ६)।
 कच्यि (गि) देतो कच्य = कच्य (हैं ५, ३११, प्राण)।
 कच्यदृ पु [दे] कतवार, कूडा (शौच ५५७)।
 कच्यदृ पु [कच्यदृ] १ वण विशेष। २ वि कृष्ण चरुवाला, काता, श्याम (हैं २, ७५, ११०, गुमा)। ३ कच्यदृ पु [कच्यदृ] कृष्ण-पक्ष, बही पतवारा (पाण)। ४ रार पु [सार] १ धूम-विशेष। २ हरिण की एक जाति (नाट—गुच्छ ३)।
 कच्यदृ वि [कच्यदृ] सकता, सब, सम्पूर्ण (हैं १, ७५)।
 कच्यदृसिअ पु [दे] बलभद्र, चागुदेव का बजा भाई (दे २, २३)।
 कच्यदृसिअ नि [कच्यदृसिअ] काता किया हुमा (पात्र)।
 कच्यदृमीर देखो कच्यदृमीर (पउम ६८, ६५)।
 कच्यदृ पु [दे] अथम बैल (दे २, ४; मा ७६५), 'गणु सीताभण्डवह्ये, तेवि तु सीर्यति का (?) क) सच्य' (पुष्प ६३)।
 कच्यदृ पुन [दे कच्यदृ] रोग-विशेष, कच्य-विशेष, 'कच्यदृ (१ क) सारगिभूमा चरति साकण द्दध्रविफयतरा' (जं २—पत्र १६)।
 कच्यदृसिअ पुन [दे. कच्यदृसिअ] १ चरु-रस-वाते रागम जो शब्द होता है वह। 'राज्य उ कच्यदृसिअ' (हैं ४, ४२३, गुमा)।
 कच्यदृसिअ, पून की कनी, 'ते गिरसिहरा ते गी-पहावा ते करीरकच्यदृसिअ। लव्यति कच्यदृसिअ गच्यदृसिअ गच्यदृसिअ' (पञ्ज १)।
 कच्यदृसिअ न [दे] वाण, भाफ। २ वि स्तोत्र, गल्प। ३ प्रतुर, व्यास (दे २, ५३)। ४ प्राद, गोता, 'चहिरकच्यदृसिअविशेषदृसिअको-लावगनिउरं' (रा ४३७, दे २, ५३)। ५ कर्म-श, परण, 'बुद्धोभयकच्यदृसिअ'।
 कच्यदृसिअ कच्यदृसिअ (गउउ)।

११)। 'समय पुं [°समय] १ अनाप्त-प्रणीत शास्त्र (सम्म १)। २ वि कुतीर्थिक, कुशात्त का प्रणेता और अनुयायी (सम्म १)। 'सह्य वि [°शल्यिक] जिसके भीतर खराब शल्य घुस गया हो वह (परह २, ४)। 'सील न [°शील] १ खराब स्वभाव (भाचा)। २ अत्रहाचर्य, व्यभिचार (ठा ४, ४)। ३ वि. जिसका आचरण अच्छा न हो वह, दुराचारी (शोध ७६३)। ४ अत्रहाचारी, व्यभिचारी (ठा ५, ३)। 'स्सुमिण पुन [°स्वप्न] खराब स्वप्न (भा ६)। 'हण वि [°धन] अल्प धनवाला, दरिद्र (परह २, १—पत्र १००)।

कु ली [कु] १ पृथिवी, भूमि, 'कुसमयविसासण' (सम्म १ टी—पत्र ११४, से १, २६)। 'त्तिअ न [°त्रिक] १ तीनों जगत्, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक। २ तीन जगत् में स्थित पदार्थ (औप)। 'त्तिअ वि [°त्रिज] तीनों जगत् में उत्पन्न वस्तु (आवम)। 'त्तिआवण पुन [°त्रिकापण] तीनों जगत् के पदार्थ जहाँ मिल सके ऐसी दूकान (भग, राया १, १—पत्र ५३)। 'वल्य न [°वल्य] पृथ्वी-मण्डल (भा २७)।

कुअरी देखो कुओपी (पि २५१)। कुअलअ देखो कुवल्य (प्राप्र)। कुओरी देखो कुमारी (गा २६८)। कुअ वि [कुचित] सकुचा हुआ (पव ६२)। कुइमाण वि [दे] म्लान, शुष्क (दे २, ४०)। कुइय वि [कुचित] श्रवस्यन्दिता, क्षरित (ठा ६)।

कुइय वि [कुपित] क्रुद्ध, कोप-युक्त (भवि)। कुइयण पु [कुचिकर्ण] इस नाम का एक गृहपति, एक गृहस्थ (विसे ६३२)।

कुअ पुन [कुतुप] स्नेह पान, घी तैल वगैरह भरने का चमड़े का पान-विशेष, 'तुप्पाई को (? कु) उमाई (प्राप्र) देखो कुतुप।

कुअआ स्त्री [दे] तुम्बी-माय, तुम्बा (दे २, १२)।

कुअव देखो कुअ (पिंड ५५७)।

कुऊल न [दे] १ नीवी, नारा, इजारवन्द।

२ पहने हुए कपड़े का प्रात भाग, अन्वचल (दे २, ३८)।

कुऊहल न [कुतूहल] १ अपूर्व वस्तु देखने की लालसा—उत्सुकता। २ कौतुक, परिहास (हे १, ११७, कुमा)।

कुओ अ [कुत] कहाँ से? (पड)। 'इ अ [°चित] कही से, किसी से (स १८५)। 'वि अ [°अपि] कही से भी (काल)।

कुआरी स्त्री [कुमारी] वनस्पति-विशेष, कुवारपाठा, घीकुवार, घीगुवार (भा २०, जी १०)।

कुऊण न [दे] १ कोकनद, रक्त-कमल (परह १—पत्र ४०)। २ पु सुद्र जन्तु विशेष, चतुरिन्द्रिय कोड़े की एक जाति (उत्त ३६)।

कुऊण पु [कोङ्कण] देश-विशेष (अणु, साधे ३४)।

कुऊण देखो कुऊण (सिरि २८६)।

कुऊम न [कुङ्कुम] केसर, सुगन्धी द्रव्य-विशेष (कुमा, भा १८)।

कुग पु [कुङ्ग] देश-विशेष (भवि)।

कुच सक [कुञ्च] १ जाना, चलना। २ शक, सकुचित होना। ३ टेढ़ा चलना (कुमा, गडड)।

कुंच पु [कुञ्च] १ पक्षि विशेष (परह १, १, उप पृ २०८, उर १, १४)। २ इस नाम का एक अमुर (प्राप्र)। ३ इस नाम का एक अनाय देश। ४ वि उसके निवासी लोग (पव २७४)। 'रवा स्त्री [°रवा] दण्डकारण्य की इस नाम की एक नदी (पजम ४२, १५)। 'वीरग न [°वीरक] एक प्रकार का जहाज (निचू १६)। 'रि पु [°रि] कार्तिकेय, स्कन्द (प्राप्र)। देखो कौच।

कुचल न [दे] मुकुल, कली, वीर (दे २, ३६, प्राप्र)।

कुचि वि [कुञ्चिन्] १ कुटिन, वक्र। २ मायावी, कपटी (वव १)।

कुचिगा देखो कोचिगा।

कुचिय वि [कुञ्चित] १ सजुचित (मुपा ५८)। २ कुण्डन के आकारवाला, गोलाकृति (शोध; ज २)। ३ कुटिन, वक्र (वव १)।

कुचिय पुं [कुञ्चिक] इस नाम का एक टैन उपासक (भत १३३)।

कुचिया देखो कौचिगा। रुई से भरा हुआ पहनने का एक प्रकार का कपड़ा (जीत)।

कुचिया स्त्री [कुञ्चिका] कुन्नी, ताली (पिंड ३५६)।

कुजर पुं [कुअर] हन्ती, हाथी (हे १, ६६ पाम)। 'पुर न [°पुर] नगर विशेष, हस्तिनापुर (पजम ६५, ३४)। 'सेणा स्त्री [°सेना] ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एक रानी (उत्त २६)। 'वत्त न [°वर्त] नगर-विशेष (सुर ३, ८८)।

कुट वि [कुण्ट] १ कुञ्ज, वामन (भाचा)। २ हाथ-रहित, हस्त-हीन (पव ११०, निचू ११, भाचा)।

कुटलविटल न [दे] १ मत्र तंत्रादि का प्रयोग पाखण्ड विशेष (भावम)। २ वि मन्त्र-तंत्रादि से आजीविका चलानेवाला (प्राप्र)।

कुटार वि [दे] म्लान, सूखा, मलिन (दे २, ४०)।

कुटि स्त्री [दे] १ गढरी, गौठ (दे २, ३४)। २ शस्त्र-विशेष, एक प्रकार का शीमार, 'मुसलुक्खलहलदतालकुटिकुहालपमुद्दतवारण' (मुपा ५२६)।

कुठ वि [कुण्ट] १ मन्द, झालनी (भा १६)। २ मूर्ख, बुद्धि-रहित (भाचा)।

कुठौ ली [दे] संढसी, चीमटा (वज्जा ११५)।

कुड न [कुण्ड] १ कुडा, पाय-विशेष (पड)। २ जलाशय-विशेष (एदि)। ३ इस नाम का एक सरोवर (ती ३४)। ४ आग, आदेश, विसमणकुंडधारिणीतिरियमना नंग (वप)। 'कोलिय पु [°कोलिक] एन एन उपासक (उवा)। 'गाम पु [°गाम] मगध देश का एक गाँव (वप, पजम २, २१)। 'धारि वि [°धारिन्] आशापति (वप)। 'पुर न [°पुर] ग्राम-विशेष (वप)।

कुंड न [दे] ऊन परने का जाँगी काउर, जो भास का बना हुआ होता है (दे २, ३३, ४, ४५)।

कुंडग पुन [कुण्डक] १ अन्न का टिन, (उत्त १, ५, भाचा २, १, ८, ६)। २ चावल से मिश्रित भूस (उत्त १, ५)।

काई श्री [काकी] कोए की मादा (विपा १, ३) ।

काउ श्री [कापोती] लेरया विशेष, आत्मा वा एक प्रकार का परिणाम (भग, आचा) ।
लेसा श्री [लेरया] आत्म-परिणाम विशेष (सम, ठा ३, १) । लेस्स वि [लेरय] वापोत लेरयावाला (परण १७, भग) ।
लेसा देखो लेसा (परण १७) ।

काउ देवो क्र = कृ ।

काउर पु [क्रोदुस्वर] नीचे देखो (राज) ।
काउवरी श्री [क्रोदुस्वरी] श्रोषधि-विशेष, 'निववउवउवरकाउवरिवोरि—' (उप १०३१ टी, परण १) ।

काउराम वि [कर्त्तु काम] करने को चाहने-वाला (शोध ५३७) ।

काउड्वावण न [कायोड्वावन] उच्चाटन, दूर-न्यित हमरे के शरीर का आकर्षण करना (साया १, १४) ।

काउदर पु [क्रोदर] साप की एक जाति (परह १, १) ।

काउमण वि [कर्त्तु मनस्] करने की चाह वाला (उज, उप पृ ७०, स १०) ।

काउरिस पु [कापुरस] १ खराब आदमी, नीच पुप । २ कातर, डरपोक पुप (गउड, मुर ८, १५०, सुपा १६२) ।

काउ पु [दे] वक, बगुला (दे २, ६) ।

काउमगग } पु [कायोत्सर्ग] १ शरीर पर
काउसगग } के ममत्व का त्याग (उत्त २६) ।
२ वायिक-क्रिया का त्याग । ३ ध्यान के लिए शरीर की निश्चलता (पडि) ।

काउ देवो काउ (ठा १, वम्म ४, १३) ।

काउण } देवो क्र = कृ ।
काउण }

काओदर देवो काउदर (त्वप्न ६८) ।

काओली श्री [काओली] बन्द विशेष, वन-स्वति विशेष (परण १) ।

काओमग पु [कायोपग] समारो आत्मा (उप २, ६) ।

काओमग देवो काउसगग (भवि) ।

काउ पु [कारु] १ तीषा, वापन (अनु ३) ।
= का-नी, प्रहापिठामय देव-विशेष (ठा २, ३—उत्त ७८) । जंया श्री [जहु] ।

वनस्पति-विशेष, चकसेनी, घु घची (अनु ३) ।
देखो काग, काय = काक ।

काकदग पु [काकन्दक] एक जैन महर्षि (कम्प) ।

काकंदिय पु [काकन्दिक] एक जैन महर्षि (कम्प) ।

काकदिया श्री [काकन्दिका] जैन मुनियो की एक शाखा (कम्प) ।

काकदी देखो काडदी (साया १, ६, ठा ५, १) ।

काकणि देखो कागणि (विपा १, २) ।

काकलि देखो कागलि (ठा १०—पत्र ४७१) ।

काग देखो काक (दे १, १०६, प्रासु ६०) ।

तालसजीवगनाय पु [तालसजीवकन्या-य] काकतालीयन्याय (उप १४२ टी) ।

तालिज्ज, तालीअ न [तालीय] जैसे कौए का अर्थात् आगमन और ताल फल का अकस्मात् गिरना होता है ऐसा अर्थात् सभव, अकस्मात् किसी कार्य का होना (आचा, दे ५, १५) । थल न [स्थल] देश-विशेष (दे २, २७) । पाल पु [पाल] कुष्ठ-विशेष (राज) । पिडी स्त्री [पिण्डी] अग्र-पिण्ड (आचा २, १, ६) । देखो काय = काक ।

कागदी देखो काडदी (अनु २) ।

कागणि स्त्री [दे] १ राज्य, 'असोगसिरियो पुत्तो अओ जायइ कागणि' (विसे ८६२) । २ मास का छोटा टुकड़ा (श्रौप) ।

कागणी देखो कागिणी (आ २७, ठा ७) ।

कागणी स्त्री [काकिणी] सवा गुँजा का एक वाट (अणु १५५) ।

कागल पु [कागल] श्रीवास्य उन्नत प्रदेश (अनु) ।

कागलि } स्त्री [काकलि, ली] १ सूक्ष्म
कागली } गीत-ध्वनि, स्वर-विशेष (सुपा ५६, उप पृ ३५) । २ देवी-विशेष, भगवान् अभिनन्दन की शासन-देवी (पव २७) ।

कागिणी स्त्री [काकिणी] १ कौडी, कपटिका (उर ७, ३, उव, आ २८ टी) । २ बीस बाँटी के मूल्य का एक सिक्का (उप ५४५) । ३ रत्न विशेष (वम २७, उप ६८६ टी) ।

कागी न्या [काकी] १ कोए की मादा (वा २ विद्या विशेष (विने २४५३) ।

काकोणंद पु [काकोनन्द] इस नाम की एक म्लेच्छ जाति, 'मिच्छा कागोणंदा विक्खाया महियलम्मि ते सुरा' (पउम ३४, ४१) ।

काठिणण न [काठिन्य] कठिनता (धर्मस ५१, ५४) ।

काठ पु [काथ] काठा (कुलक ११) ।

काण वि [काण] काना, एकाक्ष (सुपा ६४३) ।

काण वि [दे] १ सच्छिद्र, काना (आचा २, १, ८) । २ चुरामा हुआ । क्रय पु [क्रय] चुराई हुई चीज को खरीदना (सुपा ३४३-३४४) ।

काणच्छि } श्री [दे] टेढी नजर से देखना,
काणच्छिया } कटाक्ष (दे २, २४, भवि),
'काणच्छियाओ य जहा विडो तहा करेइ' (आवम) ।

काणण न [कानन] १ वन, जगल (पाअ) । वगीचा, उपवन (अनु, श्रौप) ।

काणत्येव पुं [दे] विरल जल-वृष्टि, वूँद-वूँद बरसना (दे २, २६) ।

काणद्धी श्री [दे] परिहास (दे २, २८) ।

काणिका श्री [दे] बडी इंट (बृह ३) ।

काणिट्टा श्री [काणेष्ठा] लोहे की इंट (वव ४) ।

काणिआर देखो कणिणआर (सक्षि १७) ।

काणिय न [काण्य] ब्राँक्ष का रोग, 'काणियं भिमिमन्न वेव, कुणिय खुज्जिय तहा' (आचा) ।
काणेण पु [कानीन] कुँवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र (भवि) ।

कादव देखो कायव (परह १, १) ।

कादवरी देखो कायवरी (अभि १८८) ।

कादूसण वि [कदूपण] आत्मा को दूषित करनेवाला । श्री [पिया] (भग ६, ५—पत्र २६८) ।

कापुरिस देखो काउरिस (साया १, १) ।

काम पु [काम] रोग, बीमारी (दसनि २, १५) । एव देखो कामदेव (कुप्र ४११) ।

गव न [ग्न] आयविल तप (सवोध ५८) ।

दहन पु [दहन] महादेव, शिव (वजा ६८) । रुय देखो कामरुअ (धर्मवि ५६) ।

काम सक [कामय] चाहना, वाञ्छना ।

कामेइ (पि ४६१) । कामेति (गउड) । वक, कामेत कामअमाण (गा २५६, अभि ११) ।

कुंभ पु [कुम्भ] १ स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा, भगवान् मल्लिनाथ का पिता (सम १५१, पउम २०, ४५) । २ स्वनाम-रूपात् जैन महापि, अठारहवें तीर्थंकर के प्रथम शिष्य (सम १५२) । ३ कुम्भकर्ण का एक पुत्र (से १२, ६५) । ४ एक विद्यावर सुमट का नाम (पउम १०, १३) । ५ परमाधार्मिक देवो की एक जाति (सम २६) । ६ कलश, घडा (महा, कुमा) । ७ हाथी का गण्ड-स्थल (कुमा) । ८ धान्य मापने का एक परिमाण (अणु) । ९ तरने का उपकरण (निचू १) । १० ललाट, भाल स्थल (पव २) । ११ अणुण पु [कण] रावण के छोटे भाई का नाम (१५, ११) । आर पु [कार] कुम्हार, घडा आदि मिट्टी का बरतन बनाने-वाला (हे १, ८) । उर न [पुर] नगर-विशेष (वस) । गार देखो आर (महा) । गग न [गग] मगध-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण (णया १, ८—पउ १२५) । सेण पु [सेन] उत्तिपिणो काल के प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य का नाम (तिथ्य) ।

कुभड न [कुम्भाण्ड] फल विशेष, कोहंडा, मुम्हडा (कप्पु) ।

कुम्भार पु [कुम्भकार] कुम्हार, घडा आदि मिट्टी का बरतन बनानेवाला (हे १, ८) । पाय पु [पाक] कुम्हार का बरतन पकाने का स्थान (ठा ८) ।

कुभि पु [कुम्भिन्] १ हस्ती, हाथी (सण) । २ नपुसक-विशेष, एक प्रकार का पड पुष्प (पुष्क १२७) ।

कुभिक देखो कुभिय (राय ३७) ।

कुभिणी स्त्री [दे] जल का गतं (दे २, ३८) ।

कुभिय वि [कुम्भिक] कुम्भ-परिमाणवाला (ठा ४, २) ।

कुभिल पु [दे कुम्भिल] १ चौर, स्तेन (दे २, ६२, विक ५६) । २ पिपुल, कुजंन (दे २, ६२) ।

कुभिल वि [दे] खोदने योग्य (दे २, ३६) ।

कुभी स्त्री [कुम्भी] १ पाय-विशेष, घडे के आकारवाला छोटा कौष्ठ (नम १२५) । २ कुभ, घडा (जं ८) । पाग पु [पाक] १

कुभी मे पकना (पएह २, ५) । २ नरक की एक प्रकार की यातना (सूत्र १, १, १) ।

कुभी स्त्री [कुम्भाण्डी] कोहंडा का गाछ, 'चलिओ कुभीफन दतुराणु' (गउड) ।

कुभी स्त्री [दे] केश-रचना, केश-मयम (दे २, ३४) ।

कुभील पु [कुम्भील] जलवर प्राणि विशेष, नक्र, मगर (चार ६४) ।

कुभुडभव पु [कुम्भोद्भव] ऋषि-विशेष, अगस्त्य ऋषि (कप्पु) ।

कुम्भिमि वि [कुम्भिन्] खराब काम करने-वाला (सूत्र १, ७, १८) ।

कुकुला स्त्री [दे] नवोदा, दुलहिन (दे २, ३३) ।

कुकुस [दे] देखो कुक्कुस (वस ५, १३४) ।

कुकुहाडय न [कुकुहायित] चलते समय का शब्द विशेष (तदु) ।

कुकुल पु [कुकुल] करीपाणि, कडे की आग (पएह १, १) ।

कुक्क देखो कोक्क । कुक्क (पि १६७, ४८८) ।

कुक्क पु [दे] कुत्ता, कुक्कुर, 'कुक्केहि कुक्काहि अ कुक्कयेते (मृच्छ ३६) ।

कुक्कयय न [दे] आभरण विशेष, 'अदु अजणि अलकार कुक्कयय मे पयच्छाहि' (सूत्र १, ४, २, ७) । देखो कुक्कुटय ।

कुक्की स्त्री [दे] कुत्ती, कुक्कुरी (मृच्छ ३६) ।

कुक्कुअ वि [कुक्कुच] भांड की तरह शरीर के अग्रयवो की कुचेष्टा करनेवाला (धर्म २, पव ६) ।

कुक्कुअ न [कौक्कुच्य] कुचेष्टा, कामोत्पादक अग-विकार (पउम ११, ६७, आचा) ।

कुक्कुअ वि [कुक्कुज] आक्रन्दन करनेवाला (उत्त २१) ।

कुक्कुआ स्त्री [कुक्कुचा] अवन्यन्दन, क्षण, रम-रम तरह रचना, रमना (उह ६) ।

कुक्कुअ वि [कौक्कुचिक] गड की तरह कुचेष्टा करनेवाला, काम-चेष्टा करनेवाला (भग, श्रीप) ।

कुक्कुअ न [कौकुच्य] काम-कुचेष्टा, 'भडाएण व नयणायाण नयियारनरएणमिह नएण । कुत्तुय' (उत्त ५-६ पटि) ।

कुक्कुड पु [कुक्कुट] चतुरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति (उत्त ३६, १४८) ।

कुक्कुड पु [कुक्कुट] १ बुक्कुट, मुर्गा (ग ५८२, उवा) । २ वनस्पति-विशेष (भा १५) । ३ विद्या द्वारा किया जाता ह्य प्रयोग-विशेष (वव १) । मसय न [भाम-क] १ मुर्गा का मास । २ बीजपूरक वनस्पति का उदा (भग १५) ।

कुक्कुड वि [दे] मत्त, जन्मत (दे २, ३७) ।

कुक्कुडय न [कुक्कुटक] देखो कुक्कयय (सूत्र १, ४, २, ७ टी) ।

कुक्कुडिया स्त्री [कुक्कुडिया] स्त्री कुक्कुडी कुक्कुटी, मुर्गा (णया १, ३, विपा १, ३) ।

कुक्कुडी स्त्री [कुक्कुटी] माया, पपट (विद २६७) ।

कुक्कुडेसर न [कुक्कुटेयर] तीर्थ विशेष (ती १६) ।

कुक्कुर पु [कुक्कुर] कुत्ता, ज्वान (पउम ६४, ८०, सुपा २७७) ।

कुक्कुरड पु [दे] मित्र, समूह (दे २, १३) ।

कुक्कुस पु [दे] धान्य आदि वा दान्य, भूसा (दे २, ३६, वन ५, १, ३४) ।

कुक्कुह पु [कुक्कुभ] पक्षि-विशेष (गउड) ।

कुक्कुहाइअ न [दे] चलने समय का शरर का शब्द विशेष (तदु ५३) ।

कुक्कुवि [दे कुक्कु] देवो कुक्कुवि (दे २, ३४, श्रीप, स्वप्न ६१, पव ३३) ।

कुक्कुविभरि देखो कुक्कुविभरि (धमवि १/८) ।

कुक्कुअअ देखो कुक्कुअअ (सवि ६) ।

कुग्गाह पु [कुग्गाह] १ कदाहर, हड (न ८३३ टी) । २ जल-जन्तु विशेष, 'पुरग गाहायजनुसुत्तो' (सुपा ६०६) ।

कुच पु [कुच] न्तन, धन (तुगा) ।

कुचोज न [कुचोद] कुत्ता (धमस १:७५) ।

कुध पु [कुर्ध] बंसी, बाल नभारने का न वरण (उन २२, २०) ।

कुध न [कुर्ध] १ बाली मूँद (धम सवि २१२) । २ छग विष्टेन (पएह २, ३) ।

कुधग ।

कुचधरा श्री [कुच धरा] कुचोद का नाम कर्त्तव्यता (धम ८० ना) ।

क्रियावाला (भग) । °ट्टिइ स्त्री [°स्थिति] मर कर फिर उसी शरीर मे उत्पन्न होकर रहना (ठा २, ३) । °णिरोह पु [°निरोध] शरीर-न्यापार का परित्याग (आव ४) । °तिगिन्झा स्त्री [°चिकित्सा] १ शरीर-रोग की प्रतिक्रिया । २ उसका प्रतिपादक शास्त्र (विपा १, ८) । °भवत्थ वि [°भवस्थ] माता के उदर मे स्थित (भग) । °र्वभ पु [°वन्ध्य] ग्रह-विशेष (राज) । °समिअ वि [°समित] शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति करने-वाला (भग) । °समिइ स्त्री [°सामिति] शरीर की निर्दोष प्रवृत्ति (ठा ८) ।

काय पु [°काक] १ कौआ वायस (उप ५ २२, हेरा १४८, वा २६) । २ वनस्पति-विशेष, बाला उम्पर (परण १—पत्र ३५) । देयो राऊ, काग ।

काय पु [°काच] काँच, शीशा (महा, आचा) । काय पु [°दे] १ काँवर, वहाँगी, बोफ डोने के लिए तराजूनुमा एक वस्तु, इसमे दोनो धार मिक्कर लटकये जाते हैं (गाया १, ८ दो—पा १५२) । °कोडिय पु [°कोटिक] काँवर ने भार डोनेवाला (गाया १, ८ टी) । देयो काय ।

काय पु [°दे] १ लक्ष्य, वेव्य, निशाना । २ उपमान, जिस पदार्थ की उपमा दी जाय वह (दे २, २६) ।

कायचुल पु [°दे] कामिञ्जुल, जल-पक्षी-विशेष (दे २, २६) ।

कायदी स्त्री [°दे] परिहास, उपहास (दे २, २८) ।

कायदी देयो कायदी (म ६) ।

कायधुअ पु [°दे] कामिञ्जुल जल-पक्षी विशेष (दे २, २६) ।

कायय पु [°फाम्प, °क] १ हंस पत्नी काययग (पात्र, कम्प) । २ तन्वर्-विशेष । ३ नन्द्य वृ (राज) । ४ वि नन्द्य-वृ-कम्प-श्री काययपुष्पगोत्रमसूरप्रभुतयन्स टुप व (पुष्क २६८) ।

काययन [°काम्प्यर] काय-विशेष, टुट वा काययरात्रा (पउम १-२, १२२) ।

काययरी स्त्री [°काम्प्यरी] काययरी का नाम (पुन ६३) ।

काययरी स्त्री [°काम्प्यरी] १ मदिरा, दारू (पात्र, पउम ११३, १०) । २ अद्वी-विशेष (स ५५१) ।

कायक न [°दे कायक] हरा रग की रूई से बना हुआ वस्त्र (आचा २ ५, १) ।

कायत्य पु [°काम्यस्य] जाति-विशेष, काय्य जाति, कायस्य नाम से प्रसिद्ध जाति, लेखक, लिखने का काम करनेवाली मनुष्य-जाति (मुद्रा ७६, मृच्छ ११७) ।

कायपिउच्छा स्त्री [°दे] कोकिला, कोयल, कायपिउला पिकी (दे २, ३०, षड्) ।

कायय वि [°कातर] अघोर, डरपोक (गाया १, १, प्रासू ५८) ।

कायय वि [°दे] प्रिय, स्नेह-पात्र (दे २, ५८) ।

काययि वि [°कानर] १ डरपोक, भयभीत, अघोर, 'घोरयवि भरियन्व काययिण्यावि अक्कसमरियन्व' (प्रासू १०६) । २ पु गोशालक का एक भक्त (भग ८, ५) ।

काययिया स्त्री [°कातरिका] माया, कपट (सूत्र १, २, १) ।

काययल पु [°दे] १ काक, कौआ (दे २, ५८, पात्र) । २ वि प्रिय, स्नेह-पात्र (दे २, ५८) ।

काययलि देखो कागलि (नाट—मृच्छ ६२) ।

काययम् [°काम्यवन्ध्य] ग्रह-विशेष, ग्रहा विधायक देव-विशेष (राज) ।

काययन्व देखो कर = कृ ।

काययह वि [°काम्यह] देश-विदेश मे बना हुआ (वस्त्र), (आचा २, ५, १, ७) ।

काया स्त्री [°काया] शरीर, देह (प्रासू ११२) ।

कार सक [°कारय] करवाना, बनवाना । कारेद, कारेह (पि ५७२, सुपा ११३) । भूका कारेत्वा (पि ५१७) । वक्क कारयत (सुर १६, १०), कारेमाण (कम्प) । कवक्क कारिज्जत (सुपा ५७) । सक कारिज्जण (पि ५८४) । कृ कारेयन्व (पचा ६) ।

कार वि [°क] कटु, कडवा, तीता (दे २ २६) ।

कार पुन देयो कारा = कारा (स ६११, गाया १ १) ।

कार पु [°कार] १ क्रिया, कृति, व्यापार (ज १०) । २ रूप, आदृति । ३ सच का मध्य भाग (वव ३) ।

°कार वि [°कार] करनेवाला (पउम १७, ७) ।

कारकड वि [°दे] पुरुष, कठिन (दे २, ३०) ।

कारड पु [°कारण्ड, °क] पक्षि-विशेष, 'हस-कारडग' कारडवचकवाओवसोभिय' (भवि कारडव श्रीप, स ६०१, गाया १, १, परह १, १, विक ४१) ।

कारग वि [°कारक] १ करनेवाला (पउम ८२, ७६, उप ५ २१५) । २ करानेवाला (आ ६, विसे) । ३ न कर्ता, कर्म बगैरह व्याकरण प्रसिद्ध कारक (विमे ३३८४) । ४ कारण, हेतु, 'कारणं ति वा कारणं ति वा साहारणं ति वा एगट्टा' (आचू १) । ५ उदाहरण, दृष्टान्त (श्रीघ १६ भा) । ६ पुन-सम्यक्त्व विशेष, शास्त्रानुसार शुद्ध क्रिया, 'ज जह भणिय तुमए त तह करणम्मि कारणो होइ' (सम्य १४) ।

कारण न [°कारण] १ हेतु, निमित्त (विसे २०६८, स्वप्न १७) । २ प्रयोजन (आचा) । ३ अपवाद (कम्प) ।

कारणिज्ज वि [°कारणीय] प्रयोजनीय (स ३२६) ।

कारणिय वि [°कारणिक] १ प्रयोजन से किया जाता (उवर १०८) । २ कारण से प्रवृत्त (वव २) । ३ पु न्याय-कर्ता, न्यायाधीश (सुपा ११८) ।

कारय देखो कारग (आ १६, विसे ३४२०) ।

कारय सक [°कारय] करवाना, बनवाना । कारेवेद (उव) । वक्क कारवित (सुपा ६३२, पुष्क ४७) । सक कारवित्ता (कम्प) ।

कारवण न [°कारण] निर्माण, बनवाना (राज) ।

कारवस पु [°कारवश] देश-विशेष (भवि) ।

कारवाहिय वि [°कारवाधित] देखो करे-वाहिय (श्रीप) ।

कारविय वि [°कारित] कराया हुआ (सुर १, २२६) ।

कारह वि [°कारभ] करभ सम्बन्धी (गजड) ।

कारा स्त्री [°कारा] कैदखाना (दे २, ६०, पात्र) । °गार पुन [°गार] कैदखाना, जेल (सुपा १२२, सार्व ५२) । °घर न [°गृह] कैदखाना (अञ्चु ८३) । °मंदिर न [°मन्दिर] कैदखाना, जेलखाना (कम्प) ।

कारा स्त्री [°दे] लेबा, रखा (दे २, २६) ।

कुडगी स्त्री [दे कुटङ्गी] बंस की जाली, एकपहारेण निवडिया वसकुडंगी (महा, सुर १२, २००, उप पृ २८१)।

कुडव देखो कुडव (महा, गा ६०६)।

कुडग देखो कुड (भावम, सूत्र १, १२)।

कुडमी स्त्री [कुटमी] छोटा पताका (सम ६०)।

कुडय न [दे] लता-गृह, लता से आच्छादित घर, कुटीर, भोपडी (दे २ ३७)।

कुडय पुन [कुटज] वृक्ष-विशेष, कुरैया (गाया १ ६, परण १७, स १६४), 'कुडय वलद' (कुमा)।

कुडय पु [कुडय] अनाज या अन्न नापने का एक माप (गाया १, ७, उप पृ ३७०)।

कुडाल देखो कुडाल (उवा)।

कुडिअ वि [दे] कुञ्ज, चामन, नाटा (पात्र)।
कुडिआ स्त्री [दे] वाड का विवर (दे २, २४)।

कुडिच्छ न [दे] १ वाड का छिद्र। २ कुटी, भोपडी। ३ वि घुटित, छिन्न (दे २, ६४)।
कुडिल वि [कुटिल] वक्र, टेढा (सुर १, २०, २, ८६)।

कुडिलविडल न [दे कुटिलविटल] हस्त-शिक्षा (राज)।

कुडिल न [दे] १ छिद्र, विवर (पात्र)। २ नि कुञ्ज, कुवडा (पात्र)।

कुडिलय वि [दे कुटिलरु] कुटिल, टेढा, वक्र (दे २, ४०, भवि)।

कुडिन्वय देखो कुलिन्वय (राज)।

कुडी स्त्री [कुटी] छोटा गृह, भोपडी, कुटीर (मुपा १२०, वजा ६४)।

कुडीर न [कुटीर] भोपडी, कुटी (हे ४, ३६४, पत्र ३३, ८५)।

कुडीर न [दे] वाड का छिद्र (दे २, २४)।

कुडुंग पुं [दे] लतागृह, लताओं ने ढका हुआ घर (पड, गा १७४, २३२ अ)।

कुडुव न [कुटुम्ब] परिजन, परिवार, स्वजन-वर्ग (उवा, महा, प्राप् १६७)।

कुडुवय पु [कुटुम्बय] १ वनस्पति-विशेष, घनियाँ (परण १—पत्र ४०)। २ वन्द-विशेष, 'पलडुनमणरुदेय कदनी य कुडुवए' (उत्त ३६, ६८ का)।

कुडुवि } वि [कुटुम्बिन्, क] १ कुडुम्ब-
कुडुविअ } युक्त, गृहस्थ। २ कुनवेवाला,
कर्पक (गजड)। ३ सम्बन्धी, 'सोभापुणसमुद-
एण आणएणकुडु विएण' (कम्प)।

कुडुवीअ न [दे] सुरत, समोग, मैथुन (पड)।

कुडुभग पु [दे] जल-मण्डक, पानी का मेढक (निचू १)।

कुडक पु [दे] लता गृह (पड)।

कुडुञ्चिअ न [दे] सुरत, समोग, मैथुन (दे २, ४१)।

कुडुली (अप) स्त्री [कुटी] कुटिया, भोपडी (कुमा)।

कुडु पुन [कुडय] १ भित्ति, भीत (पत्रम ६८, ६, हे २, ७८)।

'अज्ज गमोत्ति अज्ज गमोत्ति
अज्ज गमोत्ति गरिणीए।
पढमन्विअ विअहद्धे कुडुवे लेहाहिं
चित्तलियो (गा २०८)।

कुडु न [दे] आश्चर्य, कौतुक, कुतूहल (दे २, ३३, पात्र, पड, हे २, १७४)।

कुडुगिलोई [दे] गृह-गोधा, छिपकली (दे २, १६)।

कुडुलेवणी स्त्री [दे. कुड-थलेपनी] सुचा, चूना, खडी, खटिका (दे २, ४२)।

कुडुल न [दे] हल के ऊपर का विस्तृत अंग (उवा)।

कुड पुन [दे] १ चुराई हुई वस्तु की खोज में जाना (दे २, ६२, मुपा ४०३)। २ खीनी हुई चीज को छुड़ानेवाला, वापस लेनेवाला (दे २, ६७)।

कुडार पु [कुठार] कुन्हाडा, फरना (हे १, १६६, पड)।

कुडावय न [दे] अनुगमन, पीछे जाना (विने १४३६ टी)।

कुडिय वि [दे] कूब, मूर्त, वेनमक, 'यूयति नेउरए पुणो पुणो कुटियपुत्तिमोव' (सुर ३, १४२)।

कुडिय वि [दे] जिसके गाल की चोरी हो गई हो वह (मुप २, २१)।

कुण मक [कु] कना, बनाना। कुण, कुणव, कुण (भा, महा, मुपा ३२०)।

वक्र कुणत, कुणमाण (गा १६५, मुपा ३६, ११३, प्राचा)।

कुणक पु [कुणक] वनस्पति विशेष (पर १—पत्र ३५)।

कुडव न [कुणप] १ मुरदा, मृत-शरीर (नाम गजड)। २ वि दुर्गन्धी (हे १, २३१)।

कुणाल पु. व [कुणाल] १ देश विशेष (गाया १, ८, उप ६८६ टी)। २ प्रसिद्ध महाराज अशोक का एक पुत्र (विने ८६१)।

'नयर न [नगर] एक शहर, उर्ल, 'भासी कुणालनये' (सपा)।

कुणाला स्त्री [कुणाला] इस नाम की एक नगरी (मुपा १०३)।

कुणि } पु [कुणि] १ हस्त-विषय, हठ
कुणिअ } हाथ-कटा मनुष्य (पत्रम २, ७७)।

२ जन्म से ही जिमका एक हाथ छोटा हो वह। ३ जिसका एक पाव छोटा हो वह खन्न (परह २, ५—पत्र १५०, प्राचा)।

कुणिआ स्त्री [दे] वृत्ति-विवर, वाड का विवर (दे २, २४)।

कुणिम पुन [दे कुणप] १ शय, मुता, मुरदा (परह २, ३)। २ मास (भा ६, ६, शोप)। ३ नरकानाम-विशेष (सूत्र १, ५ १)। ४ शव का रजिद, बसा गोर (न ७, ६)।

कुणुकुण अक [कुणुकुणाय] शीत से घन होने पर बड़कठ' भावाज करना। वर कुणुकुणत (सुर २, १०३)।

कुणहरिया स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (पर १—पत्र ३५)।

कुतत्ती स्त्री [दे] मनोरथ, वाञ्छा (दे २, २६)।

कुनुव पुं [कुनुस्व] वाय-विशेष (राय १६)।

कुनुवर पु [कुनुस्वर] वाय विशेष (राय १६)।

कुनुव पुन [कुनुप] १ तैल का अंग अनेक चमड़े का भाग (दे ४, २२)। २ भाग (विने १, १—पत्र ११)।

कुत्त पु [कु] कुना, कुतुर (गम)।

कुत्त न [कु. कुनक] टेढा, झगगा (विने १, १—पत्र ११)।

कुत्तार नि [कुत्तार] अनाम राग (सूत्र २, ३०)।

कुत्तिय पुत्री [दे] एक राग का शीत, अनुविद्वय जन्तु शिखर, 'बर्वादि कुत्तिय विच्छ' (भा १०, पत्र ४६)।

समय पु [समय] समय, वक्त (सुज ८) । समा स्त्री [समा] समय-विशेष, श्राक ह्य समय (जो २) । सार पु [सार] मृग की एक जाति, काला मृग, 'एगो वि कालसारो ए देइ गनु पयाहिएव नतो' (गा २५) । सोअरिय पु [सौरिक] स्वनाम ग्यात एक कसाई (श्राक) । गारु, गुरु, गिरु न [गुरु] सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो घूप के काम में लाया जाता है (गाथा १, १, कप्य, श्रौष, गउड) । ग्यस, गस न [ग्यस] लोहे की एक जाति (हे १, २६६, कुमा, प्राप्र, से ८, ४६) । मवेमियपुत्त पु [मवेमिशिकपुत्र] इस नाम का एक जैन मुनि जो भगवान् पार्वनाथ की परम्परा में थे (भग) ।

कालजर पु [कालजर] १ देश-विशेष (पिंग) । २ पर्वत विशेष (श्रावम) । देखो कालिजर ।

कालस्तर नक [दे] १ निर्भत्सना करना, पटारना । २ निर्वासित करना, बाहर निवाल देना, 'तो तेण भरिया भजा, पिए । पुतो कालक्वरियइ एगो, तो सा रोमेण भणइ तयभिमुह, मइ जीवतीए इम न होइ ता जाउ दवपि, कि कजइ लच्छोए, पुत्त गिउताए पिउणा पिययम । जयमि' (मुपा ३६६, ४००) ।

कालस्तर पुन [कालाश्रर] १ श्रल्प-ज्ञान, श्रल्प-गिज्ञा, २ वि श्रल्प-गिज्ञित, 'कालक्ज-ग्निमियप्र धम्मिअ ३ निवकीउअमरिच्छ' (गा ८०८) ।

कालस्तरिअ वि [दे] १ उपालट्ट, निर्भ-मित । २ निर्मित, 'तहवि न निरमइ तुनो अणाहुनुनडाए नगमे, ततो कालक्म-गिआ गिउणा' (मुपा ३८८), 'तो पिउणा पाणेण वानस्तरियो' (मुपा ४८८) ।

कालस्तरिअ वि [कालाश्ररि] देरी में प्रार जाननेवाला, श्रशितिन, 'ओ तुम्हाए नग्मे अए पाणस्तरिया' (कप्य) ।

कालु पु [कालु] १ प्रसिद्ध जेनाचार्य कालु (मुक १ ६, २६०) । २ नमर, भां। (गद) । दगा काल (ज्या, उप ६८६ ६) ।

कालु वि [दे] इत्त, ठा (दे २, २८) ।

कालवट्ट न [दे कालवट्ट] वनुष (दे २, २८) ।

कालवेसिय पुं [कालवैशिक] एक वेस्या-पुत्र (ती ७) ।

काला स्त्री [काला] १ श्याम-वर्णवाली । २ तिरस्कार करनेवाली (कुमा) । ३ एक इन्द्राणी, चमरेन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १) । ४ वेस्या-विशेष (ती ७) ।

कालाइक्कमयन [कालातिक्रम] तप-विशेष, दिन के पूर्वार्ध तक आहार-त्याग (सवोध ५८) । कालाकोण पुन [काललवण] काला नोन या नमक (दस ३, ८) ।

कालि पु [कालिन्] बिहार का एक पर्वत (ती १३) ।

कालिअमूरि पु [कालिकसूरि] एक प्रसिद्ध प्राचीन जैन आचार्य (विचार ५२६) ।

कालिआ स्त्री [दे] १ शरीर, देह । २ कालान्तर । ३ मेघ, बारिश (दे २, ५८) । ४ मेघ-समूह, बादल (पात्र) ।

कालिआ स्त्री [कालिआ] १ देवी विशेष (मुपा १८२) । २ एक प्रकार का तूफानी पवन (उप ७२८ टी, गाथा १, ६) ।

कालिग पु [कालिङ्ग] १ देश विशेष, 'पत्तो कालिगदेमओ' (श्रा १२) । २ वि कलिङ्ग देश में उत्पन्न (पउम ६६, ५५) ।

कालिगी स्त्री [कालिङ्गी] वल्ली-विशेष, तरबूज का गाछ (पएण १) ।

कालिगी स्त्री [कालिङ्गी] विद्या विशेष (सूअ २, २, २७) ।

कालिजण न [दे] तापिच्छ, श्याम तमाल का पेड़ (दे २, २६) ।

कालिजणः स्त्री [दे] ऊपरदेखो (दे २, २६) ।

कालिजर पु [कालिजर] १ देश-विशेष (पिंग) । २ पर्वत-विशेष (उत्त १३) । ३ न जगल-विशेष (पउम ५८, ६) । ४ तीर्थ-न्यान-विशेष (ती ७) ।

कालिङ्गी स्त्री [कालिङ्गी] १ यमुना नदी (पात्र) । २ एक इन्द्राणी, शक्केन्द्र की एक पटरानी (पउम १०२, १५६) ।

कालिय पु [दे] १ शरीर, देह । २ मेघ, बारिश (दे २, ५६) ।

कालिया देखो कालिय = कालिक (राज) ।

कालिगी स्त्री [कालिगी] सज्ञा-विशेष, बहुत समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे स्मरण हो सके वह (विसे ५०८) ।

कालिज्ज न [कालेय] हृदय का गूढ मास-विशेष (तदु) ।

कालिम पु स्त्री [कालिमन्] श्यामता, कृष्णता, दागीपन (सुर ३, ४४, श्रा १२) ।

कालिय पु [कालिय] इस नाम का एक सर्प (मुपा १८१) ।

कालिय वि [कालिक] १ काल में उत्पन्न, काल-सवन्वी । २ अनिश्चित, अव्यवस्थित, 'हृत्थागया इमे कामा कालिया जे अणागया' (उत्त ५, कर १६) । ३ वह शास्त्र, जिसको श्रमुक समय में ही पढ़ने की शालीय आज्ञा है (ठा २, १—पत्र ४६) । ४ दीव पुं [द्वीप] द्वीप-विशेष (गाथा १, १७—पत्र २२८) । ५ पुत्त पु [पुत्र] एक जैन मुनि जो भगवान् पार्वनाथ की परम्परा में थे (भग) । ६ सण्णि वि [सण्णिन्] कालिकी सज्ञावाला (विसे ५०६) । ७ सुय न [श्रुत] वह शास्त्र जो श्रमुक समय में ही पढ़ा जा सके (एदि) । ८ गुणोग पु [गुणोग] देखो पूर्वोक्त अर्थ (भग) ।

काली स्त्री [काली] १ विद्या-देवी-विशेष (सति ५) । २ चमरेन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १; गाथा २, १) । ३ वनस्पति-विशेष, काकजङ्घा (तनु ४) । ४ श्यामवर्ण वाली स्त्री, 'सामा गायइ म्हुए, वानी गायउ खर च रसख च' (ठा ७) । ५ राजा श्रेणिक की एक रानी (निर १, १) । ६ चोर्षा शासन-देवी (सति ६) । ७ पार्वती, गौ- (पात्र) । ८ इस नाम का एक छद (पिंग) ।

कालुण न [कारुण्य] दया, करुणा । वडिया स्त्री [वृत्ति] भीख माँग कर आजीविका करना (विपा १, १) ।

कालुणिय देखो कारुणिय (सूअ १, १, १) ।

कालुणीय देखो कारुणिय (सूअ १, ३, २, ६) ।

कालुय पु [दे] श्रव की एक उत्तम जाति (सम्मत्त २१६) ।

कालुमिय न [कालुप्य] कष्टपता, मलिनता (श्राउ) ।

एा विजय-मुगन भूमि प्रवेश-विशेष (ठा २, ३-पृ ८०) । ३ न चन्द्र-वितासी कर्मन (गाथा १ ३-पृ ६६ मे १, २६) । ४ सप्तान-विशेष, तुमुदान को चौरासी नारा मे सुएने पर जो मर्या नरा एा वर (जो २) । ५ निगर विशेष (ठा ८) । ६ रि. पुष्पी मे धानन्द पातोपाता । ७ तरार पीतोपाता (१ १, २६) । ८ जो कुमुद ।

कुमुअ पु [कुमुद] देव-विशेष (मिनि ६६७) ।
 चन्द्र पु [चन्द्र] आचार्य मिनि ३११२
 ती मुनि यन्त्रा का नाम (सम्भार १३१) ।

कुमुअंग न [कुमुदाङ्ग] मन्त्र विशेष,
 'महाभा' तो पीतमी नाम मे गुणो पर
 जो संख्या संघ मे वर (जा २) ।

कुमुआ स्त्री [कुमुदा] ? इन नाम की एा
 पुष्पविष्णी (ज ४) । २ एा गरी (मेर) ।
 कुमुडणी स्त्री [कुमुदिनी] ? चन्द्र विमानो
 रमन का पद (गुमा. -ना) । २ एा नाम
 की एक राती (जा १०३१ टी) ।

कुमुद स्त्री कुमुअ (रा) । देव-विमान-विशेष
 (नाम ३८, ३१) । शुम्भ न [शुम्भ] द्य-
 विमान-विशेष (नाम ३१) । पुर न [पुर]
 नगर-विशेष (एा) । उपभा स्त्री [प्रभा]
 इन नाम की एक पुष्पविष्णी (ज ८) । घण
 न [वन] मयुरा नारी के समीप का एा
 जन्म (ती २१) । गार पु [गार] कुमुद-
 पण्ड कुमुदो मे अरा हुआ वर (एा १, ४) ।

कुमुदग देतो कुमुअग (एा) ।
 कुमुदग न [कुमुदग] वृक्ष-विशेष (सूत्र
 २, २) ।

कुमुली स्त्री [दे] चुल्नी, चूल्हा (दे २, ३६) ।
 कुम्भ पु [कुम्भ] कच्छप, कच्छप्रा (पात्र) ।
 गाम पु [ग्राम] मगध देश के एक गाव
 का नाम (मग ११) ।

कुम्भण नि [दे] म्लान, शुष्क, कुम्हलाया
 हुआ (दे २ ४०) ।

कुम्भार पु [कुम्भार] मगध देश के एक गांव
 का नाम (आवा २, १५, १) ।

कुम्भास पु [कुलमाप] ? अन्न-विशेष, उरद
 (शोध ३५६, एा २, ५) । २ थोडा भीजा
 हुआ मूँग वगैरह धान्य (एा २, ५-पृ
 १४८) ।

कुम्मी स्त्री [कुम्मी] ? कच्छपी ।
 २ नन्द की माता का नाम (एा ११,
 ५२) । पुत्र पु [पुत्र] वा गव ऊँचा इस
 नाम का एक पुत्र, जिमो मुनि पाई थी
 (गीण) ।

कुम्ह पु [कुम्ह] भेज-विशेष (हि २, ७४) ।
 कुम्हट देतो मोहट (एा २२) ।

कुम्हडी देग कोहंडी (एा २२) ।

कुम्ह पु [कुम्ह] ? म्लान वा । २ रि जिविल
 (वा ७) । अन्विय (निर २) ।

कुम्हा स्त्री [कुम्हा] ? गी-विशेष (एा २-
 पृ ३२) ।

कुम्हा पु [कुम्हा] ? मृग की एक जाति
 (ज २) । २ गी भी मृग, हरिण (एा १,
 १, गड) । स्त्री गी (पात्र) । च्छी स्त्री
 [नी] हरिण के त्रेत्र मे नैवजाती स्त्री,
 मृगयत्री स्त्री (वाग २०) ।

कुम्हट पु [कुम्हट] वृक्ष विशेष, पियवा
 (ज १०३१ टी) ।

कुम्हुर देतो कुम्हुर । पर कुम्हुराडत
 (रभा) ।

कुम्ह पु [कुम्ह] वापति-विशेष (एा १-
 पृ ३०) ।

कुम्ह न [कुम्हक] पुष्प विशेष (एा १-
 पृ १०६) ।

कुम्ह पु [कुम्ह] कुम्ह-पत्नी उक्कोश (एा १,
 १, उ १०२६) ।

कुम्हरी स्त्री [दे] पशु, जावर (दे २, ८०) ।

कुम्हरी स्त्री [कुम्हरी] ? कुम्ह पत्नी की मादा ।
 २ गाथा छन्द का एक भेद (पिण) । ३ मेपी,
 मेही (रंभा) ।

कुम्हल पु [कुम्हल] ? वेश, बाल, 'कुम्हल-
 कुम्हलीहि कलिओ तमालवलसामलो अश्तरिण्डो'
 (सुपा २४, पात्र) । २ पक्षि-विशेष (जीव १) ।

कुम्हली स्त्री [कुम्हली] ? केशो की चक्र सटा
 (सुपा १, २४) । २ कुम्हल-पक्षिणी, 'कुम्हलिव्व
 नहणणे भमड' (पत्रम १७, ७६) ।

कुम्हवय पु [कुम्हवक] वृक्ष-विशेष, कट्मरैया
 (गा ६, मा ४०, विक्र २६, स ४१४, कुमा,
 दे ५, ६) ।

कुम्हा स्त्री [कुम्हा] वर्ष-विशेष, अकर्म भूमि-
 विशेष (ठा २, ३, १०) ।

कुम्हण न [दे] वज्र जगल, भयकर शस्त्री
 (शोध ४४७) ।

कुम्ह पु व [कुम्ह] ? आर्य देश-विशेष, जा
 उत्तर भात मे है (गाथा १, ८, कुमा) ।

२ नगवान् आदिनाथ का इस नाम का एक
 पुत्र (ती १४) । ३ अन्म-भूमि विशेष (ठा
 ६) । ४ इन नाम का एक वर (भवि) । ५

पुत्री कुम्ह वरा मे उत्पन्न, कुम्ह वशीय (ठा
 ६) । अरा, अरी देवो नीचे चरा, चरी
 (पट्) । च्छेत्त क्छेत्त न [च्छेत्त] ?

दिली के पाम का एक मैदान, जहां बौरव
 श्रीं पाण्डो की लटाई हुई थी । २ वरु

देश की राजधानी, इस्तिनापुर नगर (भवि
 ती १६) । चड पु [चन्द्र] इस नाम का

एक राजा (यम्भ, प्रावम) । चर वि [चर]
 कुम्ह देश का रहनेवाला । स्त्री चरा,
 चरी (हि ३, ३१) । जगल न [जङ्गल]

कुम्ह-भूमि देश-विशेष (भवि, ती ७) । ग्राह
 पु [नाथ] दुर्गोवन (गा ८४३ गड) ।

दत्त पु [दत्त] इन नाम का एक श्रेष्ठी
 शार जैन मर्हाप (उत २, सवा) । मई स्त्री

[मती] अद्यत चक्रवर्ती की पटरानी (सम
 १५२) । राय पु [राज] कुरु देश का

राजा (ठा ७) । चइ पु [पति] कुरु देश
 का राजा (उ ७२८ टी) ।

कुम्हकुया स्त्री [कुम्हकुचा] पाँव का प्रसालन
 (शोध ३१८) ।

कुम्हकुर अक [कुम्हकुराय] 'कुर-कुर' श्रावण
 करना, कुलकुलाना, वडवडाना । कुम्हकुराप्रति

(पि १५८) । वक्र कुम्हकुराअत (कम्पू) ।
 कुम्हकुरिअ न [दे] रणरणक, श्रौत्सुक्व (दे
 २, ४२) ।

कुम्हगुर देतो कुम्हकुर । कुम्हगुरेति (स ५०३) ।
 कुम्हचिह पु [दे] ? कुलीर, जल-जलु-विशेष ।

२ न ग्रहण, उपादान (दे २, ४१) । देवो
 कुम्हचिह ।

कुम्हच वि [दे] अनिष्ट, अप्रिय (दे २, ३६) ।
 कुम्हच वि [दे] ? निर्दय, निष्ठुर (दे २, ६३,
 भवि) । २ निपुण, चतुर (दे २, ५३, भवि) ।

कुम्हण न [दे] राजा का या दूसरे का वर
 (राज) ।

कुम्हमाल सक [दे] टटोलना, घीरे घीरे हाथ
 फेरना । वक्र, कुम्हमालत (कुम् ४४) ।

३ स्त्री काशी नगरी, बनारस शहर (कुमा) ।
 *पुर न [°पुर] काशी नगरी, बनारस शहर
 (पउम ६, १३७) । *राय पु [°राज] काशी
 देश का राजा (उत्त १८) । *व पु [°प]
 काशी देश का राजा (पउम १०४, ११) ।
 *वड्डण पु [°वर्धन] इस नाम का एक
 राजा, जिनने भगवान् महावीर के पास दीक्षा
 ली थी (ठा ८—पत्र ४३०) ।
 वासिअ न [दे] १ सूक्ष्म वस्त्र, वारीक
 कपड़ा । २ सफेद वस्त्र (दे २, ५६) ।
 वासिअ न [कासित] छोक, झुत (राज) ।
 वासिअ न [दे] काकस्थल-नामक देश (दे
 २, २७) ।
 वासिअ वि [कासिक] खांसी रोगवाला (विपा
 १, ७—पत्र ७२) ।
 वासी स्त्री [काशी] काशी, बनारस (साया
 १, ८) । *राय पु [राज] काशी का राजा
 (पिण) । *स पु [°श] काशी का राजा
 (पिण) । *सर पु [°श्वर] काशी का राजा
 (पिण) ।
 वाह सक् [कथय्] कहना । काहयते (सूअ
 १, १३, ३) ।
 वाहर देखो काहार (दस ४, १ टी) ।
 वाहल वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ ठग, धूर्त
 (दे २, ५८) ।
 वाहल वि [कातर] कातर, डरपोक, अवीर
 (हे १, २१४; २५४) ।
 वाहल पुन [वाहल] १ वाय-विशेष (सुर ३,
 ६६; धौप, एदि) । २ अव्यक्त आवाज (पएह
 २, २) ।
 वाहल स्त्री [वाहल] वाय-विशेष, महा-
 टारा (निरू ८७) ।
 वाहलिया स्त्री [वाहलिका] श्राद्ध-विशेष
 (नर २७१) ।
 वाहली स्त्री [दे] तरुणी, युवती (दे २, २६) ।
 वाहली स्त्री [दे] १ राज करने का धान्यादि ।
 २ वना, जिनपर पूरी या पूरी बर्गह पकायी
 जाती है (दे २, ५६) ।
 वाहार पु [दे] बटार, पर जाति जो पानी
 न ले भां दोनी बर्गह डोने का काम करती
 है (दे २ ००; नरि) ।
 वाहार पुन [दे] वावर, बहोनी (मुज १०, ६) ।

काहावण पु [कार्हावण] सिक्का-विशेष (हे
 २, ७१; परह १, २, षड्, (प्राप्र) ।
 काहिय वि [काथिक] कथा-कार, वार्ता करने-
 वाला (बृह १) ।
 काहिल पु [दे] गोपाल, ग्वाला, स्त्री. ल^०
 (दे २, ३८) ।
 काहिलिआ स्त्री [दे] तवा, जिसपर पूरी आदि
 पकायी जाती है (प्राप्र) ।
 काहीअ देखो काहिय (गच्छ ३, ६) ।
 काहीइदाण न [कारिण्यतिदान] प्रत्युपकार
 की आशा से दिया जाता दान (ठा १०) ।
 काहे अ [कदा] कब, किस समय ? (हे २,
 ६५; अत २४; प्राप्र) ।
 काहेणु स्त्री [दे] गुजा, लाल रत्ती (दे २,
 २१) ।
 कि देखो किं (हे १, २६, षड्) ।
 कि सक [कृ] करना, बनाना, 'डुक्किय करणे'
 (विसे ३३००) । कबकू किजत (सुर १,
 ६०, ३, १४; ५६) ।
 किअ देखो मय = कृत (काप्र ६२५; प्रासू १५;
 धम्म २४; मै ६५; वजा ४) ।
 किअ देखो किअ = कृप (पड्) ।
 किअत वि [कियत्] कितना (सण) ।
 किअत देखो कयत (अच्चु ५६) ।
 किआडिआ स्त्री [कृकाटिका] गला का उन्नत
 भाग (प्राप्र) ।
 किइ स्त्री [कृति] कृति, क्रिया, विधान (पड्,
 प्राप्र, उव) । *कम्म न [°कर्मन्] १ बन्धन,
 प्रणमन (सम २१) । २ कार्य-करण (भग
 १४, ३) । ३ विश्रामणा (व्यव० गा० ६२) ।
 किं स [किम्] कौन, क्या, क्यों, निन्दा,
 प्रश्न, प्रतिशय, अल्पता और साह्य को
 बतलानेवाला शब्द (हे १, २६, ३, ५८,
 ७२; कुमा, विपा १, १, निच्चू ६३), 'किं
 बुल्लति मणीमो जाउ सहस्सेहि विप्पति'
 (प्रासू ४) । *उण अ [°पुन] तब फिर,
 फिर क्या ? (प्राप्र) ।
 किंरुत्तव्यया देवो किंकायवया (भाचा २,
 २, ३) ।
 किंरुम्म पु [किंरुम्मन्] इस नाम का एक
 गृह्य (अंत) ।

किंकर पु [किङ्कर] नौकर, चाकर, दास (सुपा
 ६०, २२३) । *सच्च पु [°सत्य] १ पर-
 मेश्वर, परमात्मा । २ अव्युत्त, विष्णु (अच्चु
 २) ।
 किंकीरी स्त्री [किङ्कीरी] दासी, नौकरानी
 (कप्पु) ।
 किंकाइअ देखो केकाइय (अणु २१२) ।
 किंकायव्यया स्त्री [किंकर्त्तव्यता] क्या
 करना है यह जानना । *मूढ वि [°मूढ]
 किंकर्त्तव्य-विमूढ, हक्काबक्का, भौंचक्का, वह
 मनुष्य जिसे यह न सूझ पड़े कि क्या किया
 जाय (महा) ।
 किंकार पुन [केङ्कार] अव्यक्त शब्द-विशेष
 (सिरि ५४१) ।
 किंकिअ वि [दे] सफेद, श्वेत (दे २, ३१) ।
 किंकिञ्जजड वि [किंकरुत्तजड] हक्काबक्का,
 वह मनुष्य जिसे यह न सूझ पड़े कि क्या
 किया जाय (आ २७) ।
 किंकिणिआ स्त्री [किङ्किणिका] क्षुद्र-घाएटका,
 करबनी (सुपा १५६) ।
 किंकिणी स्त्री [किङ्किणी] ऊपर देखो (सुपा
 १५४; कुमा) ।
 किंकिलि देखो ककिलि (विचार ४६१) ।
 किंगिरिड पु [किङ्किरिट] क्षुद्र कीट-विशेष,
 श्रोत्रिय जीव की एक जाति (राज) ।
 किंच अ [किञ्च] समुच्चय-द्योतक अव्यय, और
 भी, दूसरा भी (सुर १, ४०; ४१) ।
 किंचण न [किञ्चन] १ द्रव्य-हरण, चोरी
 (विसे ३४५१) । २ अ कुछ, किञ्चित् (वव
 २) ।
 किंचण न [किञ्चन] द्रव्य, वस्तु (उत्त ३२,
 ८, सुव ३२, ८) ।
 किंचहिय वि [किञ्चिदधिक] कुछ ज्यादा
 (सुपा ४३०) ।
 किंचि अ [किञ्चिन्] अल्प, ईपत्, थोडा
 (जी १, स्वन् ४७) ।
 किंचिम्मत्त वि [किञ्चिन्मात्र] स्वल्प, बहुत
 थोडा, यत्किञ्चित् (सुपा १४२) ।
 किंचूण वि [किञ्चिदून] कुछ कम, पूर्ण-प्राय
 (धौप) ।
 किञ्जक पु [किञ्जलक] पुष्प-रेणु, पराग
 (साया १, १) ।

कुलाल पु [कुलाट] १ माजरी, विलाड ।
२ ब्राह्मण, विप्र (सूत्र २, ६) ।

कुलिगाल पु [कुलाङ्गार] कुल मे कलक
लगानेवाला, दुराचारी (ठा ४, १—पत्र
१८५) ।

कुलिअ न [कुलिअ] खेत मे घास काटने का
छोटा काष्ठ-विशेष (अणु ४८) ।

कुलिक } पु [कुलिक] १ ज्योतिष-शास्त्र
कुलिय } मे प्रसिद्ध एक कुयोग (गण १८) ।
२ न एक प्रकार का हल (परह १, १) ।

कुलिय न [कुड्य] १ भीत, भित्ति (सूत्र १,
२, १) । २ मिट्टी की बनाई हुई भीत (बृह
२, कस) ।

कुलिया स्त्री [कुलिका] भीत, कुड्य (बृह २) ।

कुलिर पु [कुलिर] मेप वौरह वारह राशि
मे चतुर्थ राशि (पउम १७, १०८) ।

कुलिअवय पु [कुटिअत] परिव्राजक का एक
भेद, तापस-विशेष, घर मे ही रहकर क्रोधादि
का विजय करनेवाला (श्रौप) ।

कुलिस पुन [कुलिश] वज्र, इन्द्र का मुख्य
आयुध (पाम्र, जप ३२० टी) । °निनाय पु
[°निनाद] रावण का इस नाम का एक सुभट
(पउम ५६, २६) । °मज्जन न [°मध्य]
एक प्रकार की तपश्चर्या (पउम २२, २४) ।

कुलीकोस पु [कुटीकोश] पक्षि-विशेष (परह
१, १—पत्र ८) ।

कुलीण वि [कुलीन] उत्तम कुल में उत्पन्न
(आसू ७२) ।

कुलीर पु [कुलीर] जन्तु-विशेष (पाम्र, दे २
४१) ।

कुलुच सक [दह, म्लै] १ जलाना । २
म्लान करना । सक 'मालइकुसुमाइ कुलु-
चिऊण मा जाणि रिण्वुओ सिसिरो' (गा
४२६) ।

कुलुक्खिय वि [दे] जला हुआ, 'विरहदवनिग-
कुलुक्खियकायहो' (भवि) ।

कुलोवकुल पु [कुलोपकुल] ये चार नक्षत्र—
श्रमिजित, शतमिपा, श्राद्री और श्रनुराधा
(सुज १०, ५) ।

कुल पु [दे] १ शीवा, कण्ठ । २ वि अस-

मर्थ, अशक्त । ३-छिन्न-पुच्छ, जिसकी पूँछ
कट गई हो वह (दे २, ६१) ।

कुल पुन [दे] चूतड, गुजराती मे 'कुलो'
(सुख ८, १३) ।

कुल अक [कुद] कूदना । वक्क, 'मारईरक्ख-
साए वल मुक्कवुक्कारपाडक्ककुलतवगगतसे-
णापुह' (पउम ५३, ७६) ।

कुलउर न [कुलयपुर] नगर-विशेष (सथा) ।

कुलड न [दे] १ कुली, चूल्हा (दे २, ६३) ।
२ छोटा पात्र, पुडवा (दे २, ६३, पाम्र) ।

कुलरिअ पु [दे] कान्दविक, हलवाई, मिठाई
बनानेवाला (दे २, ४१) ।

कुलरिया स्त्री [दे] हलवाई की दूकान
(आवम) ।

कुला स्त्री [कुल्या] १ जल की नाली, सारिणी
(कुमा, हे २, ७६) । २ नदी, कृत्रिम नदी
(कप्प) ।

कुलाग पु [कुल्याक] सनिवेश-विशेष, मगध
देश का एक गाँव (कप्प) ।

कुली देखो कुला (धर्मवि ११२) ।

कुलुडिया स्त्री [कुलुडिका] घटिका, घडी
(सूत्र १, ४, २) ।

कुलुरी स्त्री [दे] खाय-विशेष, गुजराती—
'कुलेर' (पव ४) ।

कुलूरिअ [दे] देखो कुलरिअ (महा) ।

कुल्ह पु [दे] शृगाल, सियार (दे २, ३४) ।

कुवणय न [दे] लकुट, यष्टि, लडकी, छडी
(राज) ।

कुवलय न [कुवलय] १ नीलोत्पल, हरा रग
का कमल (पाम्र) । २ चन्द्र-विकासी कमल
(श्रा २७) । ३ कमल, पद्म (गा ५) ।

कुवली स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (कुप २४६) ।

कुविंद पु [कुविन्द] तन्तुवाय, कपडा बुनने-
वाला (सुपा १८८) । °वल्ली स्त्री [°वल्ली]
वल्ली-विशेष (परह १—पत्र ३३) ।

कुविय वि [कुपित] क्रुद्ध, जिसको गुस्सा
हुआ हो वह (परह १, १, सुर २, ५, हेका
७३, आसू ६४) ।

कुविय देखो कुप्प = कुप्प (परह १, ५, सुपा
४०६) । °साला स्त्री [°शाला] विछोना
आदि गृहोपकरण रखने की कुटिया, घर का
वह भाग जिसमे गृहोपकरण रखे जाते हैं
(परह १, ४—पत्र ११३) ।

कुवेपी स्त्री [कुवेपी] शस्त्र-विशेष, एक प्रकार
का हथियार (परह १, ३—पत्र ४४) ।

कुवेर देखो कुवेर (महा) ।

कुव्व सक [कु, कुर्व] करना, बनाना । कुव्वइ
(भग) । भूका कुव्विया (पि ५१७) । वक्क.
कुव्वत, कुव्वमाण (श्लो १५ भा, णाय
१, ६) ।

कुस पुन [कुश] वृण-विशेष, दर्भ, डाम,
काश (विपा १, ६, निव्व १) । २ पु दाश-
रथी राम के एक पुत्र का नाम (पउम १००,
२) । °ग [°ग] दर्भ का अग्र-भाग जो
अत्यन्त तीक्ष्ण होता है (उत्त ७) । °गानय
न [°गनगर] नगर-विशेष, विहार का एक
नगर, राजगृह, जो आजकल 'राजगिर' नाम
से प्रसिद्ध है (पउम २, ६८) । °गपुर न
[°गपुर] देखो पूर्वोक्त अर्थ (सुर १, ८१) ।

°ट्ट पु [°वर्त्त] आर्य देश विशेष (सत ६७
टी) । °ट्ट पु [°र्य] आर्य देश विशेष, जिसकी
राजधानी शौर्यपुर थी (इक) । °त्त न [°त्त]
°त्त] आस्तरण-विशेष, एक प्रकार का
विछौना (णाय १, १—पत्र १३) । °स्थल-
पुर न [°स्थलपुर] नगर विशेष (पउम २१,
७६) । °मट्टिया स्त्री [°मृत्तिका] डाम के
साथ कुटी जाती मिट्टी (निव्व १८) । °वर पु
[°वर] द्वीप-विशेष (अणु—टी) ।

कुस वि [कुश] दर्भ का बना हुआ (आवा
२, २, ३, १४) ।

कुसण न [दे] तीमन, आद्र करना (दे २,
३५) ।

कुसण न [दे] गोरस (पिंड २८२) ।

कुसणिय वि [दे] गोरस से बना हुआ कस्बा
आदि खाय, 'कुसु' (? स) णियति (पिंड
२८२ टी) ।

कुसल वि [कुशल] १ निपुण, चतुर, वन
अभिज्ञ (आवा, णाय १, २) । २ न, सुल
हित (राय) । ३ पुरय (पवा ६) ।

कुसला स्त्री [कुशला] नगरी-विशेष, विनीत
अयोध्या (आवम) ।

कुसार देखो कूसार (स ६८६) ।

कुसी स्त्री [कुसी] लोहे का बना हुआ
हथियार (दे ८, ५) ।

उममें मिल जाता है उस तरह मिला हुआ (उव) ।

किट्ट वि [कित्ठ] क्लेश-युक्त (भग ३, २, जीव ३) ।

किट्ट वि [कृष्ट] जोता हुआ, हल-विदारित (सुर ११, ५६, भग ३, २) । २ न. देव-विमान विशेष, 'जे देवा सिरिवच्छ सिरिदाम-वट मल्ल किट्ट (? ट्ट) चावोरणय अर-एणवडिमग विमाण देवताए उववरणा' (सम ३६) ।

किट्टि स्त्री [कृष्टि] १ कर्पण । २ खीचाव, आरपण । ३ देवविमान-विशेष (मम ६) । 'कूड न [कूट] देवविमान-विशेष (सम ६) । 'घोस न [घोप] विमान-विशेष (मम ६) । 'जुत्त न [युक्त] विमान-विशेष (मम ६) । 'उम्भय न [ध्वज] विमान विशेष (मम ६) । 'प्यभ न [प्रभ] देवविमान-विशेष (सम ६) । 'वण्ण न [वर्ण] विमान-विशेष (मम ६) । 'सिंग न [शृङ्ग] विमान-विशेष (मम ६) । 'सिद्ध न [शिष्ट] एक देव-विमान (मम ६) ।

किट्टिपात्त न [कृष्टथावर्त्त] देवविमान-विशेष (मम ६) ।

किट्टुत्तरवडिसग न [कृष्टयुत्तरावतसक] इस नाम एक देव-विमान, देव-भवन (सम ६) ।

किट्ठग वि [क्रीडक] क्रीडा करनेवाला (सुम १, ४, १, २ टी) ।

किट्ठि पु [किरि] सूकर, सूयर (हे १, २५१, गट्ट) ।

किट्ठिकिट्ठिया स्त्री [किट्ठिकिट्ठिका] सूखी ग्नी वी भानज (राया १, १—पत्र ७४) ।

किट्ठिभ पु [किट्ठिभ] रोग विशेष, एक प्रकार का छुट्ट कोर (सहस्र १५, भग ७, ६) ।

किट्ठिग म्त्री [ट्टे] मिट्टी, छोटा द्वार (स ५२) ।

किट्ट घन [क्रीट्ट] खेतना, क्रीडा करना । पर किट्टित (नि ३६७) ।

किट्टार वि [क्रीटाकर] क्रीडा-कारक (भौष) ।

किट्टा म्त्री [क्रीटा] १ क्रीडा, खेन (विपा १, ७) । २ बान्धव-या (ठा १०—पत्र २१६) ।

किट्टाविया स्त्री [क्रीडिका] क्रीडन घात्री, बालक को खेल-कूद करानेवाली दाई (राया १, १६—पत्र २११) ।

किट्ठि वि [ट्टे] १ सभोग के लिए जिसको एकान्त स्थान में लाया जाय वह (वव ३) । २ स्थविर, वृद्ध (वह १) ।

किट्ठिण न [किट्ठिन] सन्यासियो का एक पान, जो वाँस का बना हुआ होता है (भग ७, ६) ।

किण सक [क्री] खरीदना । किणइ (हे ४, ५२) । वक्क 'से किण किणावेमाणे हण धायमाणे' (सुम २, १) । किणत (सुपा ३६६) । सक्क किणित्ता (पि ५८२) । प्रयो. किणावेइ (पि ५५१) ।

किण पु [किण] १ धर्षण-विह, धर्षण की निशानी (गडड) । २ मास-ग्रथि । ३ सुखा घाव (सुपा ३७०, वजा ३६) ।

किणइय वि [ट्टे] शोभित, विभूषित (पल्ल ६२, ६) ।

किण्ण न [क्रयण] कीटना, खरीद, क्रय (उप पृ २५८) ।

किणा देखो किण्ण (प्राप्र, हे ३, ६६)

किणि वि [क्रयिन्] खरीदनेवाला (सम्बोध १६) ।

किणिकिण अक [किणिकिणय] किण-किण आवाज करना । वक्क. किणिकिणित (भौष) ।

किणिय वि [क्रीत] कीना हुआ, खरीदा हुआ (सुपा ४३४) ।

किणिय पु [किणिक] १ मनुष्य की एक जाति, जो बाजा बनाती और बजाती है (वव ३) । २ रप्ती बनाने का काम करने-वाली मनुष्य जाति, 'किणिया उ वरत्ताओ वलित' (पच्च) ।

किणिय न [किणित] वाद्य-विशेष (राय) ।

किणिया स्त्री [किणिग] छोटा फोडा, फुनसी, 'अल्लेवि मइ महियलनिमीय-सुप्पल्लकिणियपोगिल्ला ।

मल्लिणजरवप्पडोच्छइयविग्गहा

वहवि हिट्ठित' (स १८०) ।

किणिस घन [शाणय] तीक्ष्ण करना, तेज करना । किणिसइ (पिग) ।

किणो अ [किमित्ति] क्यो, किसलिए ? (दे २, ३१, हे २, २१६, पात्र, गा ६७, महा) ।

किण्ण वि [क्रीण] १ उल्कीर्ण, खुदा हुआ, 'उवलकिणएणव कट्ठघडियव्व' (सुपा ५७१) । २ क्षिप्त, फेंका हुआ (ठा ६) ।

किण्ण पुं [किण्व] १ फलवाला वृक्ष-विशेष, जिससे दाह बनता है (गडड, आत्ता) । २ न सुरा बीज, किण्व-वृक्ष के बीज, जिसका दाह बनता है (उत्त २) । 'सुरा स्त्री [सुरा] किण्व-वृक्ष के फल से बनी हुई मदिता (गडड) ।

किण्ण वि [ट्टे] शोभमान, राजमान (दे २, ३०) ।

किण्ण अ [किंनम्] प्ररनार्थक अव्यय (उवा) ।

किण्णर देखो किंनर (ज १, राय, इक) ।

किण्णा अ [कथम्] क्यो, क्यो कर, कैमे ? 'किण्णा लद्धा किण्णा पत्ता' (विपा २, १—पत्र १०६) ।

किण्णु अ [किन्तु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्ररन । २ वितर्क । ३ सादृश्य । ४ स्थान, स्थल । ५ विकल्प (उवा, स्वप्न ३४) ।

किण्ह देखो कण्ह (गा ६५, राया १, १, उर ६, ५, परण १७) ।

किण्ह न [ट्टे] १ वारीक कपडा । २ सफेद कपडा (दे २, ५६) ।

किण्हग पु [ट्टे] वर्षाकाल में घडा आदि में होनेवाली एक तरह की काई (जीवस ३६) ।

किण्हा देखो कण्हा (ठा ५, ३—पत्र ३५१, कम्म ४, १३) ।

कितव पुं [कितव] धूतकर, जूआरी (दे ४, ८) ।

कित्त देखो किच्च (सकि ५) ।

कित्त देखो किट्ट = कीर्त्तय् । भवि कित्तइस्स (पडि) । सक्क कित्तइत्ताण (पच्च ११६) ।

कित्तण न [कीर्त्तन] १ श्लाघा, स्तुति, 'तव य जिणुत्तम सति कित्तण' (अजि ४, से ११, १३३) । २ वर्णन, प्रतिपादन । ३ कथन, उक्ति (विसे ६४०, गडड, कुमा) ।

कित्तणा स्त्री [कीर्त्तना] कीर्त्तन, वर्णन, प्रशंसा (विद्य ७४८) ।

'कुहेडविजासवदारजीवी न गच्छई सरण तम्मि काले' (उत्त २०, ४५) । २ आभाणक, वक्रोक्ति-विशेष, 'तिसु न विम्हयइ सय आह-ट्टुकुहेडएहि व' (पव ७३ टी, वृह १) ।
 कुहेडग पुंन [दे] अजमा (पचा ५, ३०) ।
 कुहेडगा ली [कुहेटगा] कन्द-विशेष, पिरडाल (पव ४) ।
 कूअ देखो कूव = कूप (चड, हम्मोर ३०) ।
 कूअग न [कूजन] १ अव्यक्त शब्द । २ वि ऐसी आवाज करनेवाला (ठा ३, ३) ।
 कूअणया ली [कूजन्ता] कूजन, अव्यक्त शब्द (ठा ३, ३) ।
 कूइआ ली [कूपिका] कूई, छोटा कूप (चड) ।
 कूइय न [कूजित] अव्यक्त आवाज (महा-सुर ३, ४८) ।
 कूइया ली [कूजिका] किनाड आदि का अव्यक्त आवाज (पिड ३५६ टी) ।
 कूचिआ ली [कूचिका] बाढी-मुँछ का बाल (सबोध ३१) ।
 कूचिया ली [कूचिका] बुदबुद, बुलबुला, पानी का बुलका (विसे १४६७) ।
 कूज अक [कूज्] अव्यक्त शब्द करना । कूजाहि (वाच २१) । वक्र कूजत (मै २६) ।
 कूजिअ न [कूजित] अव्यक्त आवाज (कुमा, मै २६) ।
 कूड सक [कूटय्] १ झूठा ठहराना । २ अव्यथा करना । कूडे (अणु ५० टी) ।
 कूड पुं [दे कूट] पाश, फाँसी, जाल (दे २, ४३, राय, उत्त ५, सूत्र १, ५, २) ।
 कूड पुन [कूट] १ असत्य, झल युक्त, झूठा, 'कूडतुलकूडमारो' (पिड) । २ भ्रान्ति जनक वस्तु (भग ७, ६) । ३ माया, कपट, छल, दगा, धोखा (सुपा ६२७) । ४ नरक (उत्त ५) । ५ पीडा-जनक स्थान, दु खोपादक जगह (सूत्र १, ५, २, उत्त ६) । ६ शिखर, टोच (ठा ४, २, रसा) । ७ पर्वत का मध्य भाग (ज २) । ८ पाषाणमय यन्त्र-विशेष, मारने का एक प्रकार का यन्त्र (भग १५) । ९ सप्तह, राशि (निर १, १) । १० कारि वि [कारिन्] बोखेबाज, दगाखोर (सुपा ६२७) । ११ ग्गाह पु [ग्गाह] बोखे से जीवो को फँसानेवाला (विपा १, २) । ली, ग्गाहपी

(विपा १, २) । १० जाल न [जाल] बोखे का जाल, फाँसी (उत्त १६) । ११ तुला ली [तुला] झूठी नाप, वनावटी नाप (उवा १) । १२ पास न [पाश] एक प्रकार की मछली पकडने का जाल (विपा १, ८) । १३ पयोग पु [प्रयोग] प्रच्छन्न पाप (भाव ४) । १४ लेह पुं [लेख] १ जाली लेख, दूसरे के हस्ताक्षर-तुल्य प्रक्षर बना कर बोखे-वाणी करना । २ दूसरे के नाम से झूठी चिट्ठी वगैरह लिखना (पिड, उवा) । १५ वाहि पु [वाहिन्] बैल, बलीवर्द (भाव ५) । १६ सख न [साक्ष्य] झूठी गवाही (पचा १) । १७ सखिख वि [साखिन्] झूठी साक्षी देनेवाला (आ १४) । १८ सखिखन न [साक्ष्य] झूठी गवाही (सुपा ३७५) । १९ सामलि ली [शाल्मलि] १ वृक्ष-विशेष के आकार का एक स्थान, जहाँ गड जातीय देवो का निवास है (सम १३, ठा २, ३) । २ नरक स्थित वृक्ष-विशेष (उत्त २०) । ११० गार न [गार] १ शिखर के आकारवाला घर (ठा ४, २) । २ पर्वत पर बना हुआ घर (आचा २, ३, ३) । ३ पर्वत में खुदा हुआ घर (निच १२) । ४ हिंसा-स्थान (ठा ४, २) । १११ गारसाला ली [गारशाला] षड्यन्त्र वाला घर, षड्यन्त्र करने के लिए बनाया हुआ घर (विपा १, ३) । ११२ हच्च न [हत्त्य] पाषाण-मय यन्त्र की तरह मारना, कुचल डालना (भग १५) ।
 कूड न [कूट] १ पाश, जाल, फाँस, फदा (सूत्र १, ५, २, १८, राय ११४) । २ लगातार २७ दिन का उपवास (सबोध ५८) ।
 कूडग देखो कूड (भावम) ।
 कूण अक [कूणय्] सकुचित होता, सकोच पाना (गडड) ।
 कूणिअ वि [कूणित] सकोच प्राप्त, सकोचित (गडड) ।
 कूणिअ वि [दे] ईषद् विकसित, थोडा खिला हुआ (दे २, ४४) ।
 कूणिअ पु [कूणिक] राजा श्रेणिक का पुत्र (श्रीप) ।
 कूणिय वि [कूणित] सडा हुआ (कुप्र १६०) ।

कूय अक [कूज्] अव्यक्त आवाज करना । वक्र कूयत, कूयमाण (श्रीप २१ भा, विपा १, ७) ।
 कूय पुं [कूप] १ कूप, कुँआ (गडड) । २ धी, तेल वगैरह रखने का पात्र, कुतुप (शाया १, १—पत्र ५८, श्रीप) । ३ दूदुर पु [दूर्] १ कूप का मेढक । २ वह मनुष्य जो अपना घर छोड बाहर न गया हो, अल्पज्ञ (उप ६४८ टी) । देखो कूव ।
 कूर वि [क्रूर] १ निर्दय, निष्कृप, हिंसक (परह १ ३) । २ भयकर, रौद्र (शाया १, ८, सूत्र १, ७) । ३ पु रावण का इस नाम का एक सुभट (पत्रम ५६, २६) ।
 कूर पुन [कूर] वनस्पति विशेष (सूत्र २, ३, १६) ।
 कूर न [कूर] भात, मोदन (दे २, ४३) । १ गडुअ, गडुअ पु [गडुअ] एक जैन गृहपि (आचा, भाव ८) ।
 कूर अ [ईपन्] थोडा, अल्प (हि २, १२६, पड्) ।
 कूरपिड न [दे] भोजन-विशेष, खाद्य विशेष (भावम) ।
 कूरि वि [क्रूरिन्] १ निर्दयी, क्रूर चित्तवाला । २ निर्दय परिवारवाला (परह १, ३) ।
 कूल न [दे] सैन्य का पिछला भाग (दे २, ४३, से १२, ६२) ।
 कूल न [कूल] तट, किनारा (पाष, शाया १, १६) । १ धम्मग पु [ध्मायक] एक प्रकार का वानप्रस्थ जो किनारे पर खडा हो आवाज कर भोजन करता है (श्रीप) । वालग, वालय पु [वालक] एक जैन मुनि (भावम काल) ।
 कूलकंसा ली [कूलकपा] नदी, तीर को तोडनेवाली नदी (दिणी १२०) ।
 कूय पुन [दे] १ चुराई चीज की चीज में जाना (दे २, ६२, पात्र) । २ चुराई चीज को छुडानेवाला, छीनी हुई चीज को सडाई वगैरह कर वापस लेनेवाला, 'तए ए मा दोवदी देवी पत्रमणाम एव वयासी—एव खलु देवा० जवुदीवे दीवे मारहे वासे वारव-तीए रामरीए कएहे एणम वासुदेव मम पियमाउए परिवसति, त जइ एं से छएह

किरगिह वि [किरणवत्] किरणवाला, तेजस्वी (सुर २, २४२) ।

किराड १ पु [किरात] १ अनायं देश विदेश किराय १ (पव १४८) । २ भील, एक जगली जाति (सुर २, २७, १८०, सुपा ३६१, हे १, १८३) ।

किरात (शौ) देखो किराय (प्राक् ८६) ।

किरि देखो किर = किल (सिरि ८३२, ८३४) ।

किरि पु [किरि] भातू की आवाज, 'कथ्यइ किरिति कथ्यइ हिरिति कथ्यइ छिरिति रिच्छायण सद्दो' (पउम ६४, ४५) ।

किरि पु [किरि] सूकर, सूअर (गउड) ।

किरिआण देखो कयाण 'जम्मंतराहिअणुण किरिआणो' (कुलक २१) ।

किरिइरिया १ स्त्री [दे] १ कर्णोपकर्णिका, किरिकिरिआ १ एक कान से दूसरे कान हुई हुई वात, गप । २ कुतूहल, कौतुक (दे २, ६१) ।

किरिकिरिया स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, बाँस आदि की कम्पा—लकड़ी से बना हुआ एक प्रकार का वाजा (आचा २, ११, १) ।

किरित्तण देखो कित्तण (नाट—माल ६७) ।

किरिया स्त्री [क्रिया] १ क्रिया, कृति, व्यापार, प्रयत्न (सूअ २, १, ठा ३, ३) । २ शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान (सूअ २, ४, प १४६) । ३ मावद्य व्यापार (भग १७, १) । ४ द्वाण न [स्थान] कर्मवन्ध का पारण (सूअ २, २, भाव ४) । ५ वर वि [पर] अनुष्ठान कुशल (पड्) । ६ वाड वि [वादिन्] १ आस्तिक, जीवादि का प्रस्तित्व माननेवाला (ठा ४, ४) । २ केवल क्रिया से ही भोग होता है ऐसा माननेवाला (सम १०६) । ३ विसाल न [विशाल] एक अत्र प्रत्याय, तेज्ज्वा पूर्व-ग्रन्थ (सम २६) ।

किरीड पु [किरिड] मुकुट, सिरि मूषण (पाप) ।

किरीडि पु [किरिडिन्] मञ्जुन, मध्यम पाण्डन (देगी १६२) ।

किरी वि [कीट] कौना हुआ, सरोदा हुआ (नाम) ।

किरी पु [किरि] १ एव स्नेह्य देव । २ उन्नी वरद स्नेह्य जाति (राज) ।

किरोलय न [किरोलक] फल-विशेष, किरोलिका वल्ली का फल (उर ६, ५) ।

किल देखो किर = किल (हे २, १८६, गउड, कुमा) ।

किलंत वि [क्लान्त] खिन्न, श्रान्त (षड्) ।

किलज न [किलिञ्ज] बाँस का एक पात्र, जिसमे गैया वगैरह को खाना खिलाया जाता है (उवा) ।

किलज न [किलिञ्ज] वृण-विशेष (धर्मवि १३५, १३६) ।

किलकिल अक [किलकिलाय्] 'किल-किल' आवाज करना, हँसना, 'किलकिलइ व्व सहरिस मणिककीकिणिविण' (कप्पु) । किलकिलाइय न [किलकिलायित्] 'किल-किल' ध्वनि, हर्ष-ध्वनि (आवम) ।

किलणी स्त्री [दे] रथ्या, गली (दे २, ३१) ।

किलम्म अक [क्लम्] क्लान्त होना, खिन्न होना । किलम्मइ (कप्पु) । किलम्मसि (वजा ६२) । वक्क किलम्मत (पि १३६) ।

किलाचक न [क्रीडाचक्र] इस नाम का एक छन्द—वृत्त (पिंग) ।

किलाड पु [किलाट] दूष का विकार-विशेष, मलाई (दे २, २२) ।

किलाम सक [क्लामय्] क्लान्त करना, खिन्न करना, ग्लानि उत्पन्न करना । किलामेज (पि १३६) । वक्क किलामेत (भग ५, ६) । कवक्क किलामीअमाण (मा ४६) ।

किलाम पु [क्लाम] खेद, परिश्रम, ग्लानि, 'खमण्णो भे किलामो' (पडि, विसे २४०४) ।

किलामणया स्त्री [क्लामना] खिन्न करना, उत्पन्न करना (भग ३, ३) ।

किलामणा स्त्री [क्लामना] क्लम, क्लेश (महानि ४) ।

किलामिअ देगो किलत (अणु १:६) ।

किलामिअ वि [क्लमित्] खिन्न किया हुआ, हेरान किया हुआ, पीडित, 'तएहाकिलामिअगो' (पउम १०३, २२, सुर १०, ४८) ।

किलिच न [दे] छोटी लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, दंततरमोहणयं किर्नचमित्तपि अविदिन्' (मत १०२, पाथ, दे २, ११) ।

किलिअ न [दे] ऊपर देगो (गा ८०) ।

किलित देगो किलत (नाट—मृच्छ २५, पि १३६) ।

किलिकिच अक [रम्] रमण करना, क्रीडा करना । किलिकिचइ (हे ४, १६८) ।

किलिकिचिअ न [रत्] रमण, क्रीडा, सभोग (कुमा) ।

किलिकिल अक [किलिकिलाय्] 'किल-किल' आवाज करना । वक्क किलिकिलत (उप १०३१ टी) ।

किलिकिलि न [किलिकिलि] इस नाम का एक विद्याधरनगर (इक) ।

किलिकिलिकिल देखो किलकिल । वक्क किलिकिलिकिलत (पउम ३३, ८) ।

किलिगिलिय न [किलिकिलित्] 'किल-किल' आवाज करना, हर्ष-योतक ध्वनि-विशेष (स ३७०, ३८५) ।

किलिट्ट वि [क्लिष्ट] १ क्लेश-युक्त (उत्त ३२) । २ कठिन, विषम । ३ क्लेश जनक (प्राप्र, हे २, १०६, उव) ।

किलिण्ण देखो किलिन्न (स्वप्न ८५) ।

किलित्त वि [क्लृप्त] कल्पित, रचित (प्राप्र, षड्, हे १, १४५) ।

किलित्ति स्त्री [क्लृप्ति] रचना, कल्पना (पि ५६) ।

किलिन्न वि [क्लिन्न] आर्द्र, गीला (हे १, १४५, २, १०६) ।

किलिम्म देखो किलिम्म । किलिम्मइ (पि १७७) । वक्क किलिम्मत (से ६, ८०, ११, ५०) ।

किलिम्मिअ वि [दे] कथित, उक्त (दे २, ३२) ।

किलिय देखो कीव (वव २, मै ४३) ।

किलिस अक [क्लिश्] खेद पाना, थक जाना, दु खी होना । वक्क किलिसत (पउम २१, ३८) ।

किलिस देखो किलेस, 'मिच्छतमच्छभीयाण, किलिससल्लिम्मि वृहण' (मुपा ६४) ।

किलिसिअ वि [क्लेशित्] आयासित, क्लेश-प्राप्त (स १४६) ।

किलिस्स देखो किलिस्स = किलिस्सु । किलिस्सइ (महा, उव) । वक्क किलिस्सत (नाट—माल ३१) ।

किलिस्सिअ वि [क्लिष्ट] क्लेश प्राप्त, क्लेश-युक्त (उप ४ ११६) ।

केकाइय देखो केकाइय (गाया १, ३—पत्र ६५) ।

केगाई देखो केकाई (पत्र १, ६४, २०, १८४) ।

केगाइय देखो केकाइय (राज) ।

केज्ज वि [क्रेय] बेचने की चीज (ठा ६) ।

केड } पु [कैटभ] ? इस नाम का एक
केडव } प्रतिवासुदेव राजा (पत्र ५,
१५६) । २ दैत्य-विशेष (हे १, २४०,
कुमा) । ३ रिण्ड पु [रिपु] श्रीकृष्ण, नारायण
(कुमा) ।

केत्त देखो केत्तिअ (हास्य १३६) ।

केत्तिअ } वि [कियत्] कितना ? (हे २,
केत्तिल } १५७, कुमा, पद्, महा) ।

केत्तुल (अप) ऊपर देखो (कुमा, पद्, हे ४,
४०८) ।

केत्थु (अप) अ [कुत्र] कहाँ, किस जगह ?
(हे ४, ४०५) ।

केहह देखो केत्तिअ (हे २, १५७, प्राप्र) ।

केम } (अप) देखो कह (पद्, हे ४, ४०१,
केम्ब } ४१८) ।

केय न [केत] ? गृह, घर । २ चिह्न,
निशानी (पव ४) ।

केयण न [केतन] ? वक्र वस्तु, टेढ़ी चीज ।

२ चगेरी का हाथा (ठा ४, २—पत्र २१८) ।

३ सकेत, सकेत स्थान (वव ४) । ४ घनुप
की मूठ (उत्त ६) । ५ मछली पकड़ने का
जाल (सूत्र १, ३, १) । ६ स्थान, जगह
(आचा) । ७ 'कडवहसठित' (सूत्र० पूर्णा
पत्र ८२ गा० १७६) ।

केयय देखो केकय (सुपा १४२) ।

केयव्व वि [क्रेतव्य] खरीदने योग्य वस्तु
(उत्त ३५, १५) ।

केर } वि [दे सवन्धिन्] सवन्धी वस्तु,
केरय } संवन्धी चीज (स्वप्न ५१, हे ४,
३५६, ३७३, प्राप्र, भवि) ।

केरघ न [कौरव] ? कुमुद, सफेद कमल (पात्र,
सुपा ४६) । २ कैतव, कपट (हे १, १५२) ।

केरिच्छ वि [कीहृत्] कैसा, किस तरह का ?
(हे १, १०५, प्राप्र, काल) ।

केरिस वि [कीहृत्] कैसा, किस तरह का ?
(प्रामा) ।

केरी ली [ककटी] वृक्ष-विशेष, करीर का
गाछ, 'निववोरिकेरि—' (उप १०३१ टी) ।

केल देखो कयल = कदल (हे १, १६७) ।

केलाइय वि [समारचित] साफसुयरा किया
हुआ (कुमा) ।

केलाय सक [समा + रचय] समारचन
करना, साफ कर ठीक करना । केलायइ (हे
४, ६५) ।

केलास पुं [कौलास] राहु का कृष्ण पुत्र-
विशेष (सुज २०) ।

केलास पुं [कौलास] ? स्वनाम-प्रसिद्ध पर्वत-
विशेष (से ६, ७३, गउड, कुमा) । २ इस
नाम का एक नाग राज (इक) । ३ इस नाग-
राज का आवास-पर्वत (ठा ४, २) । ४ मिट्टी
का एक तरह का पात्र (निर १, ३) । देखो
कइलास ।

केलि देखो कयलि (कुमा) ।

केलि ली [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८,
सुख ३६, ६८) ।

केलि } ली [केलि, °ली] ? क्रीडा, खेल,
केली } मजाक (कुमा, पात्र, कप्पू) । २ परि-
हास, हाँसी, ठट्टा (पात्र, ओप) । ३ काम-
क्रीडा (कप्पू, ओप) । ४ आर वि [कार]
क्रीडा करनेवाला, विनोदी (कप्पू) । ५ काणय
न [कानन] क्रीडोद्यान (कप्पू) । ६ किल,
°गिल वि [किल] ? विनोदी, क्रीडा-प्रिय
(सुपा ३१४) । ७ पुन व्यन्तर-जातीय देव-
विशेष (सुपा ३२०) । ८ पुन स्थान-विशेष
(पत्र ५५, १७) । ९ भवण न [भवन]
क्रीडा-गृह, विलास-घर (कप्पू) । १० विमाण
न [विमान] विलास-महल (कप्पू) ।
११ सअण न [शयन] काम शय्या (कप्पू) ।
१२ सेज्जा ली [शय्या] काम शय्या (कप्पू) ।

केली देखो कयली (हे १, १२०) ।

केली ली [दे] असती, कुलटा, व्यामिचारिणी
ली (हे २, ४४) ।

केलीगिल वि [केलीकिल] केलीकिल स्थान
में उत्पन्न (पत्र ५५, १७) ।

केव° देखो के° (भग, पण १७—पत्र ५४५,
विसे २८६१) ।

केव° (अप) देखो नह (कुमा) ।

केवइय वि [कियत्] कितना ? (सम
१३४, विसे ६४६ टी) ।

केवट्ट पु [कैवर्त्त] चीवर, मछलीमात्र,
मछुआ (पात्र, स २५८, हे २, ३०) ।

केवड (अप) देखो केत्तिअ (हे ४, ४०८,
कुमा) ।

केवल वि [केवल] ? अकेला, असहाय (ठा
२, १, ओप) । २ अनुपम, अद्वितीय (भा
६, ३३) । ३ शुद्ध, अन्य वस्तु से अगिहित
(दस ४) । ४ सपूर्ण, परिपूर्ण (निर १, १) ।
५ अनन्त, अन्त-रहित (विसे ८४) । ६ न
ज्ञान विशेष, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, भूत, भावी वगैरह
सर्व वस्तुओं का ज्ञान, सर्वज्ञता (विसे ८२७) ।
°कप्प वि [कल्प] परिपूर्ण, सपूर्ण (ठा
३, ४) । १°णाण न [ज्ञान] सर्वश्रेष्ठ ज्ञान,
सपूर्ण ज्ञान (ठा २, १) । २°णाणि, °नाणि
वि [ज्ञानिन्] ? केवल-ज्ञानवाला, सब
(कप्प, ओप) । ३ पु इस नाम के ए
अहंन् देव, अतीत उत्सर्पिणी-काल के अप
तीर्थकर (पव ६) । ४°णाण, °नाण, °आ
देखो °णाण (विसे ८२६, ८२६, ८२३)
°दसण न [दर्शन] परिपूर्ण सामान्य वी
(कम्म ४, १२) ।

केवलअ अ [केवलम्] ? केवल, सिर्फ, म
(स्वप्न ६२, ६३, महा) ।

केवलाअ सक [समा + रभ्] आर
करना, शुरू करना । केवलाअइ (पद्) ।

केवलि वि [केवलिन्] केवल ज्ञानवाला,
सर्वज्ञ (भग) । २ पक्खिय वि [पाच्छिक]
? स्वययुद्ध । ३ पु जिनदेव, तीर्थकर (भा
६, ३१) ।

केवलिअ वि [केवलिक] ? केवलज्ञानवाला
(भग) । २ परिपूर्ण, सपूर्ण, 'सामाइय वेचनिय
पसत्य' (विसे २६८१) ।

केवलिअ वि [केवलिक] ? केवल-ज्ञान में
संवन्ध रखनेवाला (द १७) । २ केवलि-
प्रोक्त (सूत्र १, १४) । ३ केवल-ज्ञानि सन्नवी
(ठा ४, २) । ४ न केवल ज्ञान, नपूण ज्ञान
(आव ४) ।

केवलिअ न [केवल्य] केवल ज्ञान, केवलिप
सपत्ते' (सत्त ६७ टी, विसे ११८०) ।

कीयग पु [कीचक] विराट देश के राजा का नाम, जिमको भीम ने मारा था (उप ६४८ टी), 'नवम द्वय विराडनयर, तत्थ ए तुम कि (? की) यग भाउमयसमग' (गाथा १, १६—पत्र २०६)।

कीया जी [कीका] नयन तारा, 'मरकतम-मारकलितनयणकीयरासिवन्ने' (गाथा १, १ टी—पत्र ६)।

कीर पु [दे. कीर] शुक, तोता, सुग्गा (दे २, २१, उर १, १४)।

कीर पु [कीर] १ देश विशेष, काश्मीर देश। २ वि काश्मीर देश सबन्धी। ३ वि काश्मीर देश में उत्पन्न (विसे ४६४ टी)।

कीरत } देखो कर = कृ।
कीरमाण }

कीरल पु [कीरल] देश-विशेष (पत्रम ६८, ६४)।

कीरिस देवो केरिस (गा ३७४, मा ४)।

कीरी जी [कीरी] लिपि-विशेष, कीर देश की लिपि (विसे ४६४ टी)।

कील अक [कीळ] क्रीडा करना, खेलना। कीलह (प्राप्त)। वक्र कीलत, कीलमाण (पुर १, १२१, पि २४०)। सङ्घ कीलेत्ता, कीलिङ्गण (पुर १, ११७, पि २४०)।

कील वि [दे] स्नोक, अल्प, थोड़ा (दे २, २१)।

कील देवो खील (प्राप्त)।

कील पुन [दे कील] कठ, गला (सूत्र १, ५, १, ६)।

कीलग न [कीलग] कील में बन्धन, खीले में नियंत्रण, फणिमणिकीलणदुक्क विन्हरिय पु'विदेगोए' (मोह २०)।

कीलग न [कीलग] क्रीडा, खेल (श्रीप)। 'धांटे गो [कीगी] बानरु को वेन-वूद फानेयानी राटि (गाथा १, १)।

कीलगज न [कीलगज] खिलौना (अभि २२२)।

कीलगजा } की [दे] क्या, गनी (दे २, १११)।
कीलगगी }

कीलगगी [दे] ? न-वृद्ध दुनरित (दे २, १११)।

कीलगगी [दे] गुप्त समय में किया जाना। उर-मगग विदे (२० २२)।

कीला जी [कीला] खेल, क्रीडन (सुपा ३५८, सुर १, ११७)। 'वास पु [वास] क्रीडा करने का स्थान (इक)।

कीलाल न [कीलाल] रघिर, खून, रक्त (उप ८६, पात्र)।

कीलालिअ वि [कीलालित] रघिर-युक्त, खूनवाला (गउड)।

कीलवण न [कीलगन] खेल कराना (गाथा १, २)।

कीलवणय न [कीलगनक] खिलौना (निर १, १)।

कीलिअ न [कीलित] क्रीडा, रमण, क्रीडन (सम १५, स २४१)।

कीलिअ वि [कीलित] खूँटा ठोका हुआ, 'लिहियव्व कीलियव्व' (महा. सुपा २५४)।

कीलिआ स्त्री [कीलिका] १ छोटा खूँटा, खूँटी (कम्म १, ३६)। २ शरीर सहनन-विशेष, शरीर का एक प्रकार का बाँधा, जिसमें हड्डियाँ केवल खूँटी से बँधी हुई हो ऐसा शरीर-बन्धन (सम १४६, कम्म १, ३६)।

कीव पु [कीव] १ नपुंसक (वृह ४)। २ वि कातर, अधीर (सुर २, १४, गाथा १, १)।

कीव पु [दे कीव] पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८)।

कीस वि [कीटश] कैसा, किस तरह का (भग. परण ३४)।

कीस वि [किंस्व] कौन स्वभाववाला, कैसे स्वभाव का (भग)।

कीस अ [कस्मात्] क्यों, किस से, किस कारण से ? (उव. हे ३, ६८)।

कीस देखो किलिस्स। कीसति (उत्त १६, १५, वे ३३)। वक्र कीसत (वे ८३)।

कु अ [कु] १ अल्प, थोड़ा। २ निपिद्ध, निवारित। ३ कुत्सित, निन्दित (हे २, २१७, से १, २६, सम्म १)। ४ विशेष, ज्यादा (गाथा १, १४)। 'उरिस पु [पुरुप] खराब आदमी, दुर्जन (मे १२, ३३)। 'चर वि [चर] नराज चाल-चलनवाला, सदाचार-रहित (आचा)। 'डड पु [दण्ड] पाण-विशेष, जिसका प्रान्त भाग काष्ठ का होता है

ऐसा रज्जु पान (परह १, ३)। 'डडिम वि [दण्डिम] दण्ड देकर छोना हुआ द्रव्य

(विपा १, ३)। 'तिरिथ न [तीर्थ] १ जलाशय में उतरने का खराब मार्ग (प्रासू ६०)। २ दूषित दर्शन (सूत्र १, १, १)।

३ 'तिरिथ वि [तीर्थिन्] दूषित मत का अनुयायी (कुमा)। 'दडिम देखो डडिम

(गाथा १, १—पत्र ३७)। 'दसण न [दर्शन] दुष्ट मत, दूषित धर्म (परण २)।

'दमणि वि [दर्शनिन्] १ दुष्ट दार्शनिक। २ दूषित मत का अनुयायी (आ ६)। 'दिट्ठि स्त्री [दृष्टि] १ कुत्सित दर्शन (उत्त २८)।

२ दूषित मत का अनुयायी (धर्म २)। 'दिट्ठिय वि [दृष्टिक] दुष्ट दर्शन का अनुयायी, मिथ्यात्वी (पत्रम ३०, ४४)। 'पपत्र-यण न [प्रवचन] १ दूषित शास्त्र। २ वि दूषित सिद्धान्त को माननेवाला (अणु)।

'प्पावयणिय वि [प्रावचनिक] १ दूषित सिद्धान्त का अनुसरण करनेवाला (सूत्र १, २, २)। २ दूषित आगम-सबन्धी (अनुष्ठान) (अणु)। 'भत्त न [भक्त] खराब भोजन

(पत्रम २०, १६६)। 'मार पुं [मार] १ कुत्सित मार (सूत्र २, २)। २ अत्यन्त मार, मृत-प्राय करनेवाला ताडन (गाथा १, १४)।

'रडा स्त्री [रणडा] राँड, विधवा (आ १६)। 'रुव, रुव न [रूप] १ खराब रूप (उप ३६२ टी, परह १, ४)। २ माया-विशेष (भग १२, ५)। 'लिंग न [लिङ्ग]

१ कुत्सित भेष (दस)। २ पुं कीट वगैरह धुद्र जन्तु (विसे १७५४)। ३ वि कुतीर्थिक, दूषित धर्म का अनुयायी (आवम)। 'लिंगि पु [लिङ्गिन्] १ कीट वगैरह धुद्र जन्तु (श्रीप ७४८)। २ वि कुतीर्थिक, असत्य धर्म का अनुयायी (परह १, २)। 'वय न [पद]

खराब शब्द, 'सो सोहइ दूसतो, कइयणरइयाइ विविहकव्वाइ।

जो भजिऊण कुवय, अन्नपय सुदरं देइ' (वच्चा ६)।

'वियप्प पु [विकल्प] कुत्सित विचार (सुपा ४४)। 'वुरिस देखो उरिस (पत्रम ६५, ४५)। 'ससग पु [ससर्ग] खराब सोहवत, दुर्जन-मगति (धर्म ३)। 'मत्थ पुंन [शास्त्र] कुत्सित शास्त्र, अनाप्त-प्रणीत सिद्धान्त, 'ईमरमयाइया मव्वे कुसत्था' (निच्

कौंड पु [कौण्ड, गौंड] देश-विशेष (इक) ।
 कौंडल देखो कुंडल (राज) । भेत्तगा पुं
 [भित्रक] एक व्यन्तर देव का नाम (बृह
 ३) ।
 कौंडलग पुं [कुण्डलक] पक्षि विशेष (श्रौप) ।
 कौंडलिआ स्त्री [दे] १ श्वापद जन्तु-विशेष,
 साही, श्वावित् । २ क्रीडा, कीट (दे २, ५०) ।
 कौंडिअ पु [दे] ग्राम-निवासी लोगो में फूट
 कराकर छल से गाँव का मालिक बन बैठने-
 वाला (दे २, ४८) ।
 कौंडिणपुर न [कौण्डिनपुर] नगर विशेष
 (हकिम ५१) ।
 कौंडिया देखो कुडिया (परह २, ५) ।
 कौंडिण देखो कोडिण (राज) ।
 कौंड देखो कुंड (हे १, ११६) ।
 कौंडुल्लु पुं [दे] उल्लूक, उल्लू, पक्षि-विशेष
 (दे २, ४६) ।
 कौंत देखो कुंत (परह १, १ सुर २, २८) ।
 कौंतल देखो कुंतल = कुन्तल (प्राक् ६
 सखि ४) ।
 कौंती देखो कुती (राया १, १६—पत्र
 २१३) ।
 कौंभी देखो कुभी (प्राक् ६) ।
 कोक पु [कोक] १ चक्रवाक पक्षी (दे ८,
 ४३) । २ वृक, भेडिया (इक) ।
 कोकतिय पुत्री [दे] जन्तु-विशेष, लोमड़ी,
 लोखरिआ (परह १, १) । स्त्री 'या (राया
 १, १—पत्र ६५) ।
 कोकणद देखो कोकणय (सबोध ४७) ।
 कोकणय न [कोकणद] १ रक्त कुमुद । २
 लाल कमल (परण १, स्वप्न ७२) ।
 कोकासिय [दे] देखो कोकासिय (परह
 १, ४—पत्र ७८) ।
 कोकुइय देखो कुक्कुइअ (ठा ६—पत्र ३७१) ।
 कोक सक [व्या + ह] बुलाना, आह्वान
 करना । कोकइ (हे १, ७६, षड्) । वक्क
 कोकत (कुमा) । सक कोक्किवि (भवि) ।
 प्रयो कोक्कावइ (भवि) ।
 कोकास पु [कोकास] इस नाम का एक
 वर्षिक, बडई (आन् १) ।
 कोकासिय [दे] देखो कोआसिअ (दे २,
 ५०) ।

कोक्किय वि [व्याहृत] आहृत, बुलाया हुआ
 (भवि) ।
 कोक्कुइय देखो कुक्कुइअ (कस, श्रौप) ।
 कोखुव्भ देखो खोखुव्भ वक्क कोखुव्भमाण
 (पि ३१६) ।
 कोच्चप्प न [दे] श्लोक-हित, भूठी भलाई,
 दिखावटी हित (दे २, ४६) ।
 कोच्चिय पुत्री [दे] शैक्षक, नया शिष्य (वव
 ६) ।
 कोच्छ न [कौत्स] १ गोत्र विशेष । २ पुत्री
 कौत्स गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।
 कोच्छ वि [कौक्ष] १ कुक्षि सम्बन्धी, उदर से
 सम्बन्ध रखनेवाला । २ न उदरदेश,
 'गरियायारकण्येकाल्य (१ च्छ) हत्थी' (राया
 १, १—पत्र ६४) ।
 कोच्छभास पु [दे कुत्सभाप] काक,
 कौशा, वायस, 'न मणी सयसाहस्तो आवि-
 ञ्मइ कोच्छभासस' (उव) ।
 कोच्छेअय देखो कुच्छेअय (हे १, १६१,
 कुमा, षड्) ।
 कोज्ज देखो कुज्ज (कप्प) ।
 कोज्जप्प न [दे] स्त्री रहस्य (दे २, ४६) ।
 कोज्जय देखो कुज्जय (राया १, ८—पत्र
 १२५) ।
 कोज्जरिअ वि [दे] आपूरित, पूर्ण किया हुआ,
 भरा हुआ (षड्) ।
 कोज्भरिअ वि [दे] ऊपर देखो (दे २,
 ५०) ।
 कोटर देखो कोट्टर (चेइय १५१) ।
 कोट्टिव पु [दे] गौ (निशीय ३५६५ गा०) ।
 कोट्टुभ पुन [दे] हाथ से आहत जल, 'कोट्टु भो
 जलकरप्फालो' (पाम्म) । देखो कोट्टुभ ।
 कोटीवरिस अ [कोटीवर्ष] लाट देश की
 प्राचीन राजधानी (विचार ४६) ।
 कोट्ट देखो कुट्ट = कुट्ट । कवक्क कोट्टिज्जमाण
 (आवम) । सक कोट्टिय (जीव ३) ।
 कोट्ट न [दे] १ नगर, शहर (दे २, ४५) ।
 २ कोट, किला, दुर्ग (राया १, ८—पत्र
 १३४, उत ३०, बृह १, सुपा ११८) ।
 'वाल पुं [पाल] कोटवाल, नगर-रक्षक
 (सुपा ४१३) ।

कोट्टतिया स्त्री [कुट्टयन्तिका] तिल बौद्ध
 को चूरने का उपकरण (राया १, ७—पत्र
 ११७) ।
 कोट्टकिरिया स्त्री [कोट्टक्रिया] देवी विशेष,
 दुर्गा आदि स्वरूपवाली देवी (अणु २५) ।
 कोट्टण देखो कुट्टण (ज १७६, परह १, १) ।
 कोट्टर देखो कोडर (महा, हे ४, ४२२, गा
 ५६३ अ) ।
 कोट्टवीर पु [कोट्टवीर] इस नाम का एक
 मुनि, आचार्य शिवभूति का एक शिष्य (विम
 २५५२) ।
 कोट्टा स्त्री [दे] १ गौरी, पार्वती (दे २,
 ३५—१, १७४) । २ गला, गर्दन (ज
 ६६१) ।
 कोट्टाग पु [कोट्टाक] १ वर्षिक बडई
 (आन् २, १, २) । २ न हरे फलो को
 सुखाने का स्थान-विशेष (बृह १) ।
 कोट्टिव पु [दे] द्रोणी, नौका, जहाज (दे
 २, ४७) ।
 कोट्टिम पुन [कुट्टिम] १ रत्नमय भूमि
 (राया १, २) । २ फरस-वच जमीन, बँधी
 हुई जमीन (ज १) । ३ भूमि-तल (सुर ३,
 १००) । ४ एक या अनेक तलावाला घर
 (वव ४) । ५ भोपडी, मडी । ६ रत्न की
 खान । ७ अनार का पेड़ (हे १, ११६,
 प्राप्र) ।
 कोट्टिम वि [कुट्टिम] वनावटी, वनाया
 हुआ, अकुदरती (पजम ६६, ३६) ।
 कोट्टिल } पु [कौट्टिक] मुग्दर, मुगरी, मुगर,
 कोट्टिल } जोडी (राज, राया १, ६—पत्र ६६,
 ६६) ।
 कोट्टी स्त्री [दे] १ दोह, दोहन । २ निपप
 स्वलना (दे २, ६४) ।
 कोट्टुभ पुन [दे] हाथ से आहत जल,
 'कोट्टु भ करहए तोए' (दे २, ४७) ।
 कोट्टुम अक [रम्] क्रीडा करना, रमए
 करना । कोट्टुमइ (हे ४, १६८) ।
 कोट्टुवाणी स्त्री [कोट्टुवाणी] जैन मुनि-
 गण की एक शाखा (कप्प) ।
 कोट्टु देखो कुट्टु = कुट्ट (मग १६, ६, राया
 १, १७) ।

कुडभी—कुभ

कुडभी स्त्री [दे कुडभी] छोटी पताका (श्रावम)।

कुडमोअ पुन [कुण्डमोद] हाथी के पैर की आकृतिवाला मिट्टी का एक तरह का पान (सग ६, ५१)।

कुडल पुन [कुण्डल] १ एक देव-विमान (वेन्द्र १४५)। २ तप-विशेष, 'पुरिमड्ड' या निर्विकृतिक तप (सबोध ५७)।

कुडल पुन [कुण्डल] १ कान का आभूषण (भाग, श्राप)। २ पु विदर्भ देश के एक राजा का नाम (पउम ३०, ७७)। ३ द्वीप-विशेष। ४ समुद्र-विशेष। ५ देव-विशेष (जीव ३)। ६ पर्वत-विशेष (ठा १०)। ७ गोत्र आचार (सुपा ६२)। °भद्र पु [°भद्र] कुण्डल द्वीप का एक अधिष्ठायक देव (जीव -)। °मडिअ वि [°मण्डित] १ कुण्डल से विभूषित। २ विदर्भ देश का इस नाम का एक राजा (पउम ३०, ७५)। °महाभद्र पु [°महाभद्र] देव-विशेष (जीव ३)। °महार पु [°महावर] कुण्डलवर समुद्र का अधिष्ठाता देव (सुज १६)। °वर पु [°वर] १ द्वीप विशेष। २ समुद्र-विशेष। ३ देव विशेष (जीव ३)। ४ पर्वत-विशेष (ठा ३, ४)। °वरभद्र पु [°वरभद्र] कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव (जीव ३)। °वरमहाभद्र पु [°वरमहाभद्र] कुण्डलवर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३)। °वरोभास पु [°वराव-भाम] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र विशेष (जीव -)। °वरोभासभद्र पु [°वराव भामभद्र] कुण्डलवरद्वीप का अधिष्ठाता देव (जीव ३)। °वरोभासमहाभद्र पु [°वरावभाममहाभद्र] देवो पूर्वोक्त अर्थ (जीव ३)। °वरोभासमहावर पु [°वरावभाममहावर] कुण्डलवरद्वीप का अधिष्ठाता देव विशेष (जीव ३)। °वरोभासवर पु [°वरावभामवर] समुद्र-विशेष का अधिष्ठाता देव विशेष (जीव ३)। कुण्डला स्त्री [कुण्डला] विदेशर्षि न्यून नृप विशेष (ठा २, ३)। कुण्डलि वि [कुण्डलिन] कुण्डलवती (सग २३)।

कुण्डलिअ वि [कुण्डलित] वत्तुल, गोल आकारवाला (सुपा ६२, कप्पु)।

कुण्डलिआ वि [कुण्डलिका] छन्द विशेष (पिंग)।

कुण्डलोद पु [कुण्डलोद] इस नाम का एक समुद्र (सुज १६)।

कुण्डाग पु [कुण्डाक] सनिवेश-विशेष, ग्राम विशेष (श्रावम)।

कुण्डि देखो कुडी (महा)।

कुण्डिअ पु [द] ग्राम का अधिपति, गाँव का मुखिया (दे २, ३७)।

कुण्डिअपेसण न [द] ब्राह्मण विधि, ब्राह्मण की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा (दे २, ४३)।

कुण्डिगा } स्त्री [कुण्डिका] नीचे देखो
कुण्डिया } (रभा, अनु ५, भग, गाय २, ५)।

कुण्डिन न [कुण्डिन] विदर्भ देश का एक नगर (कुप्र ४८)।

कुडी स्त्री [कुण्डी] १ कुण्डा, पात्र-विशेष, 'तिसिमहोभूमिपे ठविया कुडी य तेलपडि-पुन्ना' (सुपा २६६)। २ कमण्डल, संन्यासी का जल पान (महा)।

कुण्ड देखो कुठ (सुपा ४२२)।

कुण्डय न [दे] १ चुल्ली, बूल्हा। २ छोटा वरतन (दे २, ६३)।

कुत पु [दे] शुक, तोता, सुगा (दे २, २१)।

कुत पु [कुन्त] १ हथियार-विशेष, भाला (परह १, १, श्राप)। २ राम के एक सुभट का नाम (पउम ५६, ३८)।

कुनल पु [कुन्तल] १ केश, बाल (सुर १, १ सुपा ६१, २००)। २ देश विशेष (सुपा ६१, उव ४५५)। °हार पु [°हार] घम्मिल्ल, सयत केश, बाधे हुए बाल (पात्र)। कुनल पु [दे] सातवाहन, नृप-विशेष (दे २, ३८)।

कुनला स्त्री [कुन्तला] इस नाम की एक रानी (दम)।

कुनली स्त्री [दे] करोटिका, परोसने का एक उपकरण (दे २, ३८)।

कुनली स्त्री [कुन्तली] कुन्तल देश की रहने वाली स्त्री (कप्पु)।

कुनाउति न [कुन्ताहन्ति] बछे की लड़ाई (मिरि १०३०)।

कुती स्त्री [दे] मजरी, वौर (दे २, ३४)।

कुती स्त्री [कुन्ती] पाण्डवों की माता का नाम (उप ६४८)। °विहार पु [°विहार] नासिक-नगर का एक जैन मन्दिर, जिसका जीर्णोद्धार कुन्तीजी ने किया था (ती २८)।

कुतीपोट्टलय वि [दे] चतुष्कोण, चार कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३)।

कुंथु पु [कुन्थु] १ एक जिन-देव, इस अव-सर्पिणी काल में उत्पन्न सत्तरहवाँ तीर्थंकर और छठवाँ चक्रवर्ती राजा (सम ४३, पडि)। २ हरिवंश का एक राजा (पउम २२, ६८)। ३ चमरेन्द्र की हस्ति-सेना का अधिपति देव-विशेष (ठा ५, १—पत्र ३०२)। ४ एक सुद्र जन्तु, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, जी १७)।

कुन्द पु [कुन्द] १ पुष्प-वृक्ष विशेष (जं २)। २ न पुष्प-विशेष, कुन्द का फूल (सुर २, ७६, गाय १, १)। ३ विद्या-घरों का एक नगर (इक)। ४ पुन छन्द-विशेष (पिंग)।

कुन्दय वि [दे] कृश, दुर्बल (दे २, ३७)।

कुंदा स्त्री [कुन्दा] एक इन्द्राणी, मानिभद्र इद्र की पटरानी (इक)।

कुदीर न [दे] विन्दी-फल, कुन्दरुन का फल (दे २, ३६)।

कुदुक्क पु [कुन्दुक्क] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ४१)।

कुदुरुक्क पु [कुन्दुरुक्क] सुगन्धि पदार्थ-विशेष (गाय १, १—पत्र ४१, सम १३७)।

कुदुल्लुअ पु [दे] पक्षि-विशेष, उल्लूक, उल्लू (पात्र)।

कुधर पु [दे] छोटी मछली (दे २, ३२)।

कुपय पुन [कूपक] तेल बगैरह रखने का पान-विशेष (रण ३१)।

कुपल पुन [कुट्मल, कुड्मल] १ इस नाम का एक नरक। २ मुकुल, कली, कलिका (हे १, २६ कुमा, पड्)।

कुवर [दे] देखो कुंधर (पात्र)।

कुभ पु [कुम्भ] १-३ माठ, अस्सी और एक नौ आढक की नाप (अणु १५१, तदु २६)। ४ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)। ५ एक राजा (राय ४६)।

कोणाली स्त्री [दे] गोष्ठी, गोठ (बृह १)।
 कोणिअ } पु [कोणिक] राजा शेरिक का
 कोणिका } पुत्र, नृप-विशेष (अतः शाया १,
 १, महा. उव)।
 कोणु स्त्री [दे] लेखा, लकीर, रेखा (दे २, २६)।
 कोणोट्टिया स्त्री [दे] शुब्जा, गु० 'चणोठी'
 (अनु० वृ० हारि० पत्र० ७६) देखो,
 चणोट्टिया।
 कोणप पु [दे. कोण] गृह-कोण, घर का
 एक भाग, कोना (दे २, ४५)।
 कोतव न [कौतव] मूषक के रोम से निष्पन्न
 सूत्रा (राज)।
 कोतुहल देखो कुजहल (काल)।
 कोत्तलका स्त्री [दे] दारु परोसने का भाण्ड,
 पात्र-विशेष (२, १४)।
 कोत्तिअ वि [कौत्तिक] कौतूकी, कुतूहली
 (गा ६७२)।
 कोत्तिअ पु [कोत्तिक] ? भूमि-स्थान करने-
 वाला वानप्रस्थ (श्रौप)। २ न एक प्रकार
 का मधु (ठा ६)।
 कोदथ देखो कोच्छ = कौक्ष।
 कोदथर न [दे] ? विज्ञान (दे २, १३)। २
 कोटर, गह्वर (सुपा २४७, निचू १५)।
 कोदथल पु [दे] ? कुशूल, कोष्ठ (दे २,
 ४८)। २ कोयली, बैला (स १६२)।
 कोदारी स्त्री [कोदारी] गौरी, कीट विशेष
 (बृह १)।
 कोदथुम } पु [कोदथुम] वासुदेव के वक्ष
 कोदथुह } स्थल की मणि (ती १००, प्राप्र,
 कोथुम } महा. गा १५१, परह १, ४)।
 कोदड पु [कोदण्ड] धनुष, धनु, काशुक,
 चाप (अत १६)।
 कोदडिम } देखो कुदडिम (अ ३, कप्प)।
 कोदडिय }
 कोदूसग देखो कोडूसग (अग ६, ७)।
 कोदव गेखो कुदव (भवि)।
 कोदविया स्त्री [दे] मातृवाहा, सुद्र कीट-
 विशेष (सुख १८, ३५)।
 कोदाल देखो कुदाल (परह १, १—पत्र
 २३)।
 कोदालिया स्त्री [कुदालिका] छोटा कुदार,
 कुदारी (विपा १, ३)।

कोध पु [कोध] इस नाम का एक राजा,
 जिसने दाशरथि भरत के साथ जैन दोहा ली
 थी (पद्म ८५, ४)।
 कोप देखो कुप = कुप। कोप्पह (नाट)।
 कोप पु [दे] अपराध, गुनाह (दे २, ४५)।
 कोप वि [कोप्य] द्वेष्य, अप्रीतिकर;
 'अकोपजषजुगला' (परह १, ३)।
 कोप्पर पु [कूर्पर] ? हाथ का मध्य भाग
 (श्रीष २६६ भा, कुमा, हे १, १२४)। २
 नदी का किनारा, तट, तीर (श्रीष ३०)।
 कोचेरी स्त्री [कौचेरी] विद्या-विशेष (पद्म
 ७, १४२)।
 कोभग } पु [कोभक] पक्षि-विशेष (अत,
 कोभगरु } श्रौप)।
 कोमल वि [कोमल] मृदु, सुकुमार (जी १०,
 पात्र, कप्प)।
 कोमार वि [कौमार] ? कुमार से सम्बन्ध
 रखनेवाला, कुमार-सम्बन्धी (विपा १, ७१)।
 २ कुमारी सम्बन्धी (पात्र)। ३ कुमारी मे
 उत्पन्न (दे १, ८१)। स्त्री 'रिया, 'री
 (अग १५)। 'भिच्च न [भृत्त्य] वैद्यक
 शास्त्र-विशेष, जिसमें बालको के स्तन पान-
 संबन्धी वर्णन है (विपा १, ७—पत्र ७५)।
 कोमारी स्त्री [कौमारी] विद्या-विशेष (पद्म
 ७, १३७)।
 कोमुइया स्त्री [कौमुदिमा] श्रीकृष्ण वासुदेव
 की एक भेरी, जो उत्सव की सूचना के समय
 बजाई जाती थी (विसे १४७६)।
 कोमुई स्त्री [दे] पूरिमा, कोई भी पूरिमा
 (दे २, ४८)।
 कोमुई स्त्री [कौमुदी] ? शब्द अक्षरों की
 पूरिमा (दे २, ४८)। २ चन्द्रिका, चँदीनी
 (श्रीप, धम्म ११ टी)। ३ इस नाम की एक
 नगरी (पद्म ३६, १००)। ४ कात्तिक की
 पूरिमा (राय)। 'नाह पुं [नाथ] चन्द्रमा,
 चाँद (धम्म ११ टी)। 'महूसव पु [महो
 त्सव] उत्सव-विशेष (वि ३६६)।
 कोमुदिया देखो कोमुइया (शाया १, ५—
 पत्र १००)।
 कोमुदी देखो कोमुई = कौमुदी (शाया १,
 १२)।
 कोयव वि [कौतव] बड़े के रोमों से बना
 हुमा (बल) (अणु ३४)।

कोयव वि [कौयव] 'कोयव' देश में निपट
 (अत्वा २, ५, १, ५)। देखो कोयवा।
 कोयवग } पु [दे] लई से भरे हुए कण्डे
 कोयवय } का बना हुमा प्रावरण विशेष,
 राजाई (शाया १, १७—पत्र २२६)।
 कोयवी स्त्री [दे] लई से भरा हुमा कण्ड
 (बृह ३)।
 कोरंग पु [कोरङ्क] पक्षि विशेष (परह १,
 १—पत्र ८)।
 कोरट } पु [कोरण्ट, 'क] ? वृक्ष विशेष
 कोरटग } (पात्र)। २ न इस नाम का
 भृगुकच्छ (महौव) शहर का एक उपवन
 (वव १)। ३ कोरण्टक वृक्ष का पुष्प (परह
 १, ४, ज १)।
 कोरअ (शौ) देखो कडरव (श्राद्ध ८५)।
 कोरय } पुन [कोरक] फलोत्पादक मुकुल,
 कोरव } फल की कली (पात्र), 'चत्तारि
 कोरवा पत्तत्ता' (ठा ४, १—पत्र १८५)।
 कोरव देखो कडरव (सम्मत्त १७६)।
 कोरविआ स्त्री [कोरव्या] देखो कोरव्याया
 (अणु १३०)।
 कोरव्य पुत्री [कोरव्य] ? कुस्वश में उत्पन्न
 (सम १५२, ठा ६)। २ कौरव्य गोत्रीय।
 ३ पु आठवाँ चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त (जीव
 ३)।
 कोरव्याया स्त्री [कौरव्याया] इस नाम की
 पञ्च ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७)।
 कोरिट } देखो कोरट (शाया १—
 कोरिटय } पत्र १६, कप्प, पद्म ४२, '
 कोरिट } श्रौप, उवा)।
 कोल पु [दे] ग्रीवा, नोक, गला (दे २ ४५)।
 कोल पु [कोड] ? सूत्र, बराह (परह १,
 १—पत्र ७, स १११)। २ उभङ्ग, गोंद;
 'कोलीकय—' (गडड)।
 कोल पु [कोल] ? देश-विशेष (पद्म ६६,
 ६६)। २ पुण, काष्ठ कीट (सम ३६)। ३
 सूकर, बराह, सूप्रर (उप ३२० टी, शाया
 १, १, कुमा, पात्र)। ४ मृषिक के आहार
 का एक जन्तु (परह १, १—पत्र ७)। ५
 अन्न-विशेष (धम्म ५)। ६ मनुष्य की एक
 नीच जाति (आह ४)। ७ बदरी वृक्ष, बेर
 का गद्य। ८ न बदरी-फल, बेर (दृज ५,
 १. अग ६, १०)। 'पाग न [पाक] नगर-

कुचग वि [कौचक] शर नामक गाछ का वना हुआ (प्राचा २, २, ३, १४)।

कुचग } देखो कुच (प्राचा २, २, ३,
कुचय } काल)। ३ कूची, वृण-निमित्त
तृनिरा, जिमे देवाल मे चूना लगाया जाता
है (उप पृ ३६३, कुमा)।

कुचिय वि [कूचिक] दाही-भूँछवाला (बृह
१)।

कुच्य मक [कुत्स्] निन्दा करना, धिक्कारना।
इ कुच्य कुच्यगिज (प्रा २७, परह १,
३)।

कुच्य पु [कुत्स] १ ऋषि-विशेष। २ गोत्र-
विशेष, 'धेरम्म ए अजमिवभूदस्स कुच्यसपु
त्तम्' (कप्प)।

कुच्य देवो कुच्य = कुत्स्।

कुच्यग पु [कुत्सक] वनस्पति विशेष (सूत्र
२ २)।

कुच्यगिज देवो कुच्य = कुत्स्, 'अन्नेसि
कुच्यगिजं मारणाणं भक्खण्णिज हि' (प्रा
२७)।

कुच्यो [कुत्सा] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा
(प्राय ४४४ उप ३२० टी)।

कुच्यि पुत्री [कुचि] १ उदर, पेट (हे १,
३५ उमा महा)। २ अडतालीम अणुल का
तान (ज २)। ३ किमि पु [कुचि] उदर मे
जल होनेवाला कोडा, द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष
(पण्य १)। ४ वार पु [वार] १ जहाज
ता काम तग्नेवाला नावर, 'कुच्यिवाक्क-
घात्ताभाजत्ताणावावाणियमा' (णाय १,
८—न १३३)। २ एक प्रमाण का जहाज
का स्याता (णाय १, १६)। ३ पूर पु
[पूर] न-तृनि (न ४)। ४ वेणणा क्री
[वेणना] न-ना गेन-विशेष (जीव ३)।
५ मूट पुन [मूल] न-विशेष (णाय १,
१२, नि १, २)।

कुच्यभारि वि [कुचिभरि] अनेनप, पद,
मार्ग, न नियमनित्त (१ चि)
१ (न १)।

कुच्यमर्हो [कुचिमनी] गमिणी,
घात-व्याप (दे २, ४१, पट्)।

कुच्यगहिना (न) देवो कुच्यमर्हो (प्राय
१०३)।

कुच्यय वि [कुत्सित] खराव, निन्दित,
गहित (पचा ७, भवि)।

कुच्यल्ल न [दे] १ वृत्ति का विवर, वाड का
छिद्र (दे २, २४)। २ छिद्र, विवर (प्राय)।
कुच्येअ १ पु [कौच्येयक] तलवार, खड्ग
(दे १, १६१ पट्)।

कुज पु [कुज] वृक्ष, पेड (ज २)।

कुजय पु [कुजय] जूझारी, जूझाखोर (सूत्र
१ २, २)।

कुज्ज वि [कुज्ज] १ कुब्ज, कुबडा, वामन
(सुपा २, कप्प)। २ पुन पुष्प-विशेष (पट्)।

कुज्यय पु [कुज्यजक] १ वृक्ष-विशेष, शतपत्रिका
(पउम ४२, ८, कुमा)। २ न उस वृक्ष का
पुष्प, 'वघेउ कुज्ययपसूण' (हे १, १८१)।

कुज्झ सक [कुज्झ] क्रोध करना, गुस्सा
करना। कुज्झ (हे ४, २१७, पट्)।

कुट्ट सक [कुट्ट] १ कूटना, पीटना, ताडन
करना। २ काटना, छेदना। ३ गरम करना।
४ उपालम्भ देना। भवि कुट्टस्स (पि ५२८)।

वक्क कुट्टित (सुर ११, १)। कक्क कुट्टि-
ज्जत्त, कुट्टिज्जमाण (सुपा ३४०, प्रासू ६६,
राय)। सक कुट्टिय (भग १४, ८)।

कुट्ट पु [कुट्ट] घडा, कुम्भ (सूत्र २, ७)।

कुट्ट पुन [दे] १ कोट, किला, 'दिज्जति कवा-
डाड कुट्टुवरि भडा ठविज्जति' (सुवा ५०३)।
२ नगर, शहर (सुर १५, ८१)। ३ वाल पु
[पाल] कोतवाल, नगर-रक्षक (सुर १५,
८१)।

कुट्टण न [कुट्टण] १ छेदन, चूरान, भेदन
(श्रोप)। २ कूटना, ताटना (हे ४, ४३८)।

कुट्टणा स्त्री [कुट्टना] शारीरिक पीडा (सूत्र
१, १२)।

कुट्टणी स्त्री [कुट्टनी] १ मूसल, एक प्रकार
की मोटी लकड़ी, जिससे चावल आदि अन्न
बूटे जाते हैं (बृह ८)। २ दूती, कुटनी,
कुट्टनी (रभा)।

कुट्टरी स्त्री [दे] चडो, पार्वती (दे २, ३५)।

कुट्टा स्त्री [दे] गोरी, पार्वती (दे २, ३५)।

कुट्टाय पु [दे] चर्मकार, मोची (दे २, ३७)।

कुट्टित देवो कुट्ट = कुट्ट।

कुट्टित्तिग देवो कोट्टित्तिया (राज)।

कुट्टिय [दे] देवो कोट्टिय (प्राय)।

कुट्टिणी स्त्री [कुट्टिनी] कूटनी, दूती (कप्प-
रभा)।

कुट्टिम देखो कोट्टिम = कुट्टिम (भग ८, ६,
राय, जीव ३)।

कुट्टिय वि [कुट्टित] १ कूटा हुआ ताडित
(सुपा १५, उत्त १६)। २ छिन्न, छेदित
(बृह १)।

कुट्ट पुन [कुट्ट] १ पंसारी के यहाँ बेची जाती
एक वस्तु, कूठ (विसे २६३, परह २, ५)। २
रोग-विशेष, कोड (वव ६)।

कुट्ट पु [कोट्ट] १ उदर, पेट, 'जहा विसं
कुट्टगय मतमूलविसारया। वेजा हणति मतेहि'
(पडि)। २ कोठा, कुशूल, धान्य भरने का
बडा भाजन (परह २, १)। ३ बुद्धि वि

[बुद्धि] एक बार जानने पर नही भूलने-
वाला (परह २, १)। देखो कोट्ट, कोट्टग।

कुट्ट वि [कुट्ट] १ शपित, अभिशप्त। २ न-
शाप, अभिशाप-शब्द, 'उड्ड कुट्ट केहि पेच्छता
आगया इत्थ' (सुपा २५०)।

कुट्टग पुन [कोट्टक] शून्य घर (वस ५, १
२०, ८२)।

कुट्टा स्त्री [कुट्टा] इमली, चिन्ता (बृह १)।

कुट्टि वि [कुट्टिन्] कुष्ठ रोगवाला (सुपा
२४३, ५७६)।

कुड पु [कुड] १ घडा, कलश (दे २, ३५,
गा २२६, विसे १४५६)। २ पर्वत। ३ हाथी
वगैरह का बन्धन-स्थान (णाय १, १—पत्र
६३)। ४ वृक्ष, पेड, 'तह्वियसिहडमडियकु-

डगो' (सुपा ५६२)। कठ पु [कण्ठ]
पात्र-विशेष, घडा के जैसा पात्र (दे २,
२०)। ५ दोहिणी स्त्री [दोहिनी] घडा भर
द्वय देनेवाली (गा ५३७)।

कुडग पुन [कुट्टङ्क] १ कुञ्ज, निकुञ्ज, लता
वगैरह से बका हुआ स्थान (गा ६८०, हेका
१०५)। २ वन, जंगल (उप २२० टी)।
३ बाँस की जाली, बाँस की बनी हुई छत
(बृह १)। ४ गड्ढर, कोटर (राज)। ५ वश-
गहन (णाय १, ८, कुमा)।

कुडग पुन [दे कुट्टङ्क] लता-गृह, लता से बका
हुआ घर (दे २, ३७, महा, प्राय, पट्)।

कुडगा स्त्री [कुट्टङ्का] लता-विशेष (पउम ५३,
७६)।

कोस पुं [कोश, ष] १ खजाना, भण्डार (गाथा १, १३१, पञ्च ५, २४)। २ तलवार की म्यान (सूत्र १, ६)। ३ कुडमल, 'कमलकोसव्व' (कुमा)। ४ मुकुल, कली (गड)। ५ गोल, वृत्ताकार, 'ता मुह-मेलियकरकोसपिहियपसरतदतकरपसर' (सुपा २७, गड)। ६ दिव्य-भेद, तप्त लोहे का स्पर्श वगैरह शपथ, 'एत्थ अम्हे कोसविसएहि पन्चाएमो' (स ३२४)। ७ अभिधान-शास्त्र शब्दार्थ-निरूपक ग्रन्थ, जैसा प्रस्तुत पुस्तक। ८ पुंन पानपात्र, चपक (पात्र)। ९ न नगर विशेष, 'कोस नाम नयर' (स १३३)। १० पाण न [पान] सौगध, शपथ (गा ४४८)। ११ हिंवि पु [धिप] खजानची, भंडारी (सुपा ७३)। कोसंब पु [कोशात्र] फल-वृक्ष-विशेष (पण्य १—पत्र ३१)। १२ गडिया ली [गण्डिका] खड्ग-विशेष, एक प्रकार की तलवार (राज)।

कोसबिया ली [कौशाम्बिका] - जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप्प)।

कोसवी ली [कौशाम्बी] बत्स देश की मुख्य-नगरी (ठा १०, विपा १, ५)।

कोसग पु [कोशक] साधुओं का एक चर्म-मय उपकरण, चमड़े की एक प्रकार की थैली (धर्म ३)।

कोसट्टइरिआ ली [दे] चरडी, पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी (दे २, ३५)।

कोसय न [दे कोशक] लघु शराव, छोटा पान पात्र (दे २, ४७, पात्र)।

कोसल न [कौशल] कुशलता, निपुणता, चातुरी (कुमा)।

कोसल न [दे] नीवी, नारा, इजारवन्द (दे २, ३८)।

कोसल } पुं [कोसल °क] १ देश-विशेष
कोसला } (कुमा, महा)। २ एक जैन महर्षि, मुकोसल मुनि (पञ्च २२, ४४)। ३ कोसल देश का राजा। ४ वि कोशल देश में उत्पन्न (ठा ५, २)। ५ पुंर न [पुर] अयोध्या नगरी (आक १)।

कोसला ली [कोसला] १ नगरी-विशेष,

अयोध्या नगरी (पञ्च २०, २८)। २ अयोध्या प्रान्त, कोसल देश (भग ७, ६)। कोसलिअ वि [कौशलिक] १ कोसल देश में उत्पन्न, कोसल देश-सम्बन्धी (भग २०, ८)। २ अयोध्या में उत्पन्न, अयोध्या सम्बन्धी (ज २)।

कोसलिअ न [दे कौशलिक] प्राश्रुत, भेंट, उपहार (दे २, १२, सण, सुपा—प्रस्तावना ५)।

कोसलिआ ली [दे कौशलिक] ऊपर देखो (दे २, १२, सुपा—प्रस्तावना ५)।

कोसल न [कौशल्य] निपुणता, चतुराई (कुमा, सुपा १६, सुर १०, ८०)।

कोसल न [दे] प्राश्रुत, भेंट, उपहार, 'त पुरजणकोसल नरवइणा अप्पिय कुमारस्स' (महा)।

कोसलया ली [कौशल्य] निपुणता, चतुराई, 'तह मज्झनीइकोसलया य खीएच्चिय इयाणि' (सुपा ६०३)।

कोसला ली [कौशलया] दाशरथि राम की माता (उज पृ ३७४)।

कोसल्लिअ न [दे कौशलिक] भेंट, उपहार (दे २, १२, महा, सुपा ४१३, ५२७, सण)।

कोसा ली [कोशा] इस नाम की एक प्रसिद्ध वेरया, जिसके यहाँ जैन महर्षि श्रीस्थूलभद्र मुनि ने निर्विकार भाव से चातुर्मास (चौमासा) किया था (विवे ३३)।

कोसिण वि [कोष्ण] थोडा गरम (नाट—वेणी)।

कोसिय न [कौशिक] १ मनुष्य का गोत्र विशेष (अभि ४१, ठा ३६०)। २ वीसवें नक्षत्र का गोन (चद १०)। ३ पु उलूक, धूक, उलू (पात्र, सार्थ ५६)। ४ साप विशेष, चरडकोशिक-नामक दृष्टि-विष सर्प, जिसको भगवान् श्रीमहावीर ने प्रबोधित किया था (आवम)। ५ वृक्ष विशेष। ६ इन्द्र। ७ नकुल। ८ कोशाध्यक्ष, खजानची ९ प्रीति, अनुराग। १० इस नाम का एक राजा। ११ इस नाम का एक अनुर। १२ सर्प को पकड़नेवाला, सपेरा, गारुडिक। १३ अम्बिसार, मज्जा। १४ शृगार-स (दे १,

१५६)। १५ इस नाम का एक तापस (भवि)। १६ पुत्री कौशिक गोत्र में उत्पन्न, कौशिक-गोत्रीय (ठा ७—पत्र ३६०)। १७ ली कोसिई (मा १६)।

कोसिया ली [कोशिका] १ भारतवर्ष की एक नदी (कस)। २ इस नाम की एक विद्या घर-राज-कन्या (पञ्च ७, ५४)। ३ चमड़े का बूता, 'कोसियमालाभूसियसिरोहरो निगय वसणो य' (स २२३)। देखो कोसी।

कोसियार पु [कोशिकार] १ कीट विशेष, रेशम का कीडा (पण्य १, ३)। २ न रेशमी वस्त्र (ठा ५, ३)।

कोसी ली [कोशी] १ शिव्नी, छोमी, फी (पात्र)। २ तलवार की म्यान (सूत्र २, १, १६)।

कोसी ली [कोशी] देखो कोसिया (ठा ५, ३—पत्र ३५१)। २ गोलाकार एक वस्तु 'कचणकोसीपविट्टवताण' (श्रौप)।

कोसुभ वि [कौसुम्भ] कुसुम-सम्बन्धी (रंग) (सिरि १०५७)।

कोसुम वि [कौसुम] फूल सम्बन्धी, फूल का बना हुआ, 'कोसुमा वाणा' (गड)।

कोसुम्ह देखो कुसुम (सक्ति ४)।

कोसेअ } न [कौरोय] १ रेशमी वस्त्र,
कोसेज } रेशमी कपडा (दे २, ३३, सप्त १५३, पण्य १, ४)। २ तसर का बना हुआ वस्त्र (जीव ३)।

कोह पुं [कोध] गुस्सा, कोप (श्रौप २ भाग ठा ४, १)। मुड वि [मुण्ड] कोप रहित (ठा ५, ३)।

कोह पु [कोथ] नटना, शीणता (भग ३, ८)। कोह पु [दे मोथ] कोयली, धंता (विज २६८८)।

कोह वि [कोववन्] कोव युक्त, कोप-मर्दित, 'कोहाए माणाए मायाए तोनाए प्रासाव-णाए' (पडि)।

कोहगक पु [कोभङ्गक] पति-विशेष (श्रौप)। कोहम्माण न [कावध्यान] कोप-युक्त चित्त (आठ ११)।

कोहंड न [कूप्माण्ड] १ कुम्भारों का, कोहंडा (वि ५६, ८६, १२७)। २ न.

कुत्ती स्त्री [दे] कुत्ती, कुक्कुरी (रभा) ।
 कुत्थ ग्र [कुत्थ] कह, किस स्थान मे ?
 (उत्तर १०४) ।
 कुत्थ नम [कुत्थय] मडाना 'नो वाऊ
 हेंजा, नो मलिल कुत्थिञ्जा' (पव १५८
 टी) कुत्थे (? त्ये) ज्जा (अणु १६१) ।
 भनि कुत्थि (? त्यि) हिई (पिड २३८) ।
 कृ कुत्थ (दमनि १०, २४) ।
 कुत्थ देवो ऋह । कुत्थमि, कुत्थसु (गा
 ५०१ अ) ।
 कुत्थण स्त्रीन [कुत्थन] सडना, मड जाना
 (पत्र ८) ।
 कुत्थर न [दे] १ विज्ञान (दे २, १३) । २
 बोटर वृत् की षोल, गह्वर (मुपा २४६) ।
 ३ नर्म गौरह वा बिल (उप ३५७ टी) ।
 कुत्थल देवो श्रेथल, 'कुत्थल (? त्य) लम-
 माणएयरों (धर्मवि २७) ।
 कुत्थव पु [कुत्थुम्ब] वाद्य विज्ञेय (राय) ।
 कुत्थुभरी स्त्री [कुत्थुम्बरी] वनस्पति-विज्ञेय,
 धनिया (परण १—पत्र ३१) ।
 कुत्थु पुन [कुत्थुम्ब] मणि-विज्ञेय, जो
 पिण्ण की छाती पर रहती है (हेका २५७) ।
 कुत्थुहमथ न [दे] नीची, नारा, इजारबन्द
 (दे २, ३८) ।
 कुत्थो दगो कुत्थो (हे १, ३७) ।
 कुत्थि [दे] प्रभूत, प्रचुर (दे २, ३४) ।
 कुत्थण पु [दे] रामक, रामा (दे २, ३८) ।
 कुत्थण पु [कुत्थण] धान्य-विज्ञेय, कोदो,
 गण्ड (मम्य १०) ।
 कुत्थण पु [कुत्थाल] १ भूमि खोदने का
 यान, कुत्थण कुत्थो (मुपा ५२६) । २
 वन-विज्ञेय (ज २) ।
 कुत्थि [कुत्थ] कुत्थित, कुत्थ-शुक्र (महा) ।
 कुत्थि (पे) ग्र [कुत्थिन्] निनी जाह मे
 (महा १२३) ।
 कुत्थ नम [कुत्थ] वीष बरता, कुत्था
 कना । कुत्थ (उप, मरा) । वट कुत्थपत
 (मुपा १६०) । कृ कुत्थिपत्र (न ६१) ।
 कुत्थ — [भाप] मोता, कना । कुत्थ
 (निर) ।
 कुत्थ — [कुत्थ] कुत्थो वीष न तो को प्रो
 व न न एतु धाण मिट्टी वी न के वने दू

गृह-उपकरण, 'लोहाई उवकखरो कुप्प' (बृह
 १, पडि) ।
 कुत्थपड पु [दे] १ गृहाचार, घर का रिवाज ।
 २ समुदाचार, सदाचार (दे २, ३६) ।
 कुत्थपर न [दे] सुरत के समय किया जाता
 हृदय ताडन-विज्ञेय । २ समुदाचार, सदाचार ।
 ३ नर्म, हांसी, ठट्ठा (दे २, ६४) ।
 कुत्थपर पु [कुत्थपर] १ कफोरिण, हाथ का
 मध्य भाग । २ जानु, घुटना । ३ रथ का
 श्रवण-विज्ञेय (ज ३) ।
 कुत्थपर पु [कुत्थपर] देखो कत्थपर । भीत की
 परत, भीत का जीर्ण-शीर्ण घर, 'एयाथो
 पाडलावडुकुत्थरा जुएणमिच्छिओ' (गउड) ।
 कुत्थपल देखो कुत्थल (पि २७७) ।
 कुत्थपास पु [कुत्थपास] कन्डुक, कांचली,
 जनानी कुत्थी (हे १, ७२, कप्प, पात्र) ।
 कुत्थिपय वि [कुत्थिपय] १ कुत्थित, कुत्थ । २
 न क्रोध, गुस्सा, 'कुत्थिपय नाम कुत्थिभय'
 (आचू ४) ।
 कुत्थिपस देवो कुत्थपास (हे १, ७२, दे २,
 ४०) ।
 कुत्थर पु [कुत्थर] भगवान् मल्लिनाथ का
 शासनविज्ञेयक यक्ष (पत्र २६) ।
 कुत्थेर पु [कुत्थेर] भगवान् कुत्थुनाथ के प्रथम
 श्रावक का नाम (विचार ३७८) ।
 कुत्थेर पु [कुत्थेर] १ कुत्थेर, यक्ष-राज, धनेश
 (पात्र, गउड) । २ भगवान् मल्लिनाथ का
 शासनविज्ञेयक यक्ष विज्ञेय (सति ८) । ३
 काञ्चनपुर के एक राजा का नाम (पत्रम ७,
 ४५) । ४ इम नाम का एक श्रेष्ठी (उप
 ७२८ टी) । ५ एक जैन मुनि (कप्प) ।
 ६ दिसा पु [कुत्थेर] उत्तर दिशा (सुर २,
 ८५) । ७ नयरी स्त्री [कुत्थेर] कुत्थेर की
 गजधानी, श्रलका (पात्र) ।
 कुत्थेरा स्त्री [कुत्थेरा] जैन साधु-गण की एक
 शाखा (कप्प) ।
 कुत्थेरा वि [दे] कुत्थेरा, कुत्थ, वामन (आ
 २७) ।
 कुत्थेर पु [कुत्थेर] त्रयमण के एक पुत्र का
 नाम (अन ५) ।
 कुत्थेरा पु [कुत्थेरा] देव विज्ञेय की जाति
 (ठा २ ३—पत्र ८५) ।

कुम्भडिद पु [कुम्भाण्डेन्द्र] इन्द्र-विशेष,
 कुम्भाण्ड देवो का स्वामी (ठा २, ३) ।
 कुम्बर देखो कुम्भार (हे १, ६७, सुपा २४३,
 ६५६, कुमा) ।
 कुम्बरी देखो कुम्भारी (कप्प, पात्र) ।
 कुम्भार पु [कुम्भार] १ प्रथम-वय का बालक,
 पाच वर्ष तक का लडका (ठा १०, एया
 १, २) । २ युवराज, राज्याहर्ष पुरुष (परह
 १, ५) । ३ भगवान् वासुपुत्र का शासना-
 विज्ञेयक यक्ष (सति ७) । ४ लोहकार, लोहार,
 'चवेडुट्टिमाईहि कुम्भारोहि अय पिब' (उत्त
 २३) । ५ कार्तिकेय, स्कन्द (पात्र) । ६ शुक
 पक्षी । ७ घुडसवार । ८ सिन्धु नदी । ९
 वृक्ष-विज्ञेय, वरुण-वृक्ष (हे १, ६७) । १०
 श्रविवाहित, ब्रह्मचारी (सम ५०) । ११ गाम
 पु [कुम्भार] ग्राम-विज्ञेय (आचा २, ३) ।
 १२ गणदि पु [कुम्भार] इस नाम का एक
 सोनार (आचम) । १३ धम्म पु [कुम्भार] एक
 जैन साधु (कप्प) । १४ बाल पु [कुम्भार]
 विज्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का
 एक सुप्रसिद्ध जैन राजा (दे १, ११३ टी) ।
 कुम्भार पु [दे] कुम्भार का महीना, श्रावित्त
 मास (ठा २, १) ।
 कुम्भारा स्त्री [कुम्भारा] इस नाम का एक
 सनिवेश, 'तथो भगव कुम्भाराए सनिवेशे
 गयो' (आचम) ।
 कुम्भारिय पु [कुम्भारिक] कसाई, सौनिक
 (बृह १) ।
 कुम्भारिया स्त्री [कुम्भारिका] देखो कुम्भारी
 (पि ३५०) ।
 कुम्भारी स्त्री [कुम्भारी] १ प्रथम त्रय की लडकी
 २ श्रविवाहित कन्या (हे ३, ३२) । ३
 वनस्पति-विज्ञेय, वीकुशारी (पत्र ४) । ४
 नवमल्लिका । ५ नदी-विज्ञेय । ६ जम्बूद्वीप
 का एक भाग । ७ वनस्पति-विज्ञेय, अप-
 राजिता । ८ सीता । ९ बड़ी इलाची । १०
 वन्या ककड़ी की लता । ११ पक्षि-विज्ञेय
 (हे ३, ३२) ।
 कुम्भारी स्त्री [दे कुम्भारी] गौरी, पार्वती (दे
 २, ३५) ।
 कुम्भार पु [कुम्भार] १ इस नाम का एक
 वानर (मे १, ३५) । २ महाविदेह-वर्ष का

खउड पुं [खपुट] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैना-चार्य (भावम, भाद्र)।
 खउर अक [खुम्] ? क्षुब्ध होना, डर से विह्वल होना। २ सक, कलुषित करना।
 खउरइ (हे ४, १५४, कुमा), 'खउरेंति विहगहण' (से ५, ३)।
 खउर वि [दे] कलुषित, 'दरदडुविणएणविदु-मरअकखउरा' (से ५, ४७, स ५७८)।
 खउर न [क्षौर] क्षौर-कर्म, हजामत (हेका १८६)।
 खउर पुन [खपुर] बैर वगैरह का चिकना रस, गोद (बृह ३, निवू १६)। °कठिणय न [कठिनक] तापसो का एक प्रकार का पात्र (विसे १४६५)।
 खउरिअ वि [खुब्ध] कलुषित, (पात्र, बृह ३)।
 खउरिअ वि [क्षौरित] मुरिडत, लुञ्जित, केश-रहित किया हुआ (से १०, ४३)।
 खउरिअ वि [खपुरित] खरिडत, चिपकाया हुआ (निवू ५)।
 खउरीकय वि [खपुरीकृत] गोद वगैरह की तरह चिकना किया हुआ, 'कलुसीकमो य किट्टीकमो य खउरीकमो य मलिणियो। कम्मोहि एस जीवो, नाऊएवि मुञ्जई जेए' (उव)।
 खओवसम पुं [क्षयोपशम] कुछ भाग का विनाश और कुछ का दबना (भग)।
 खओवसमिय वि [क्षयोपशमिक] ? क्षयो-पशम से उत्पन्न, क्षयोपशम-सम्बन्धी (सम १४५, ठा २, १, भग)। २ पुन. क्षयोपशम (भग, विसे २१७५)।
 खखर पु [दे] पलाश-वृक्ष (ती ५३)।
 खगार पु [खङ्गार] राजा खंगार, विक्रम की बारहवीं शताब्दी का सौराष्ट्र देश का एक भूपति, जिसको गुजरात के राजा सिद्धराज ने मारा था (ती ५)। °गढ पुं [°गढ] नगर विशेष, सौराष्ट्र का एक नगर, जो आज-कल 'बूनागढ' के नाम से प्रसिद्ध है (ती २)।
 खच सक [कृप्] ? खीचना। २ वश में करना। खचइ (भवि), 'ता गच्छ तुरिय-

तुरिय तुरय मा खच मुच मुक्लय' (सुपा १६८)।
 खचिय वि [कृष्ट] ? खीचा हुआ (स ५७४)। २ वश में किया हुआ (भवि)।
 खंज अक [खञ्ज] लगडा होना (कम्प)।
 खज वि [खञ्ज] लगडा, पणु, लूला (सुपा २७६)।
 खजन [खञ्ज] गाडी में लोहे के डडे के पास बांधा जाता सण आदि का गोल कपडा— जो तेल आदि से भीजाया हुआ रहता है, वि-डुआ, 'खजणयणयणिया' (उत्त ३४, ४)।
 खजण पु [खञ्जन] राहु का कृष्ण पुद्गल विशेष (सुज्ज २०)।
 खंजण पु [खञ्जन] ? पक्षि-विशेष, खञ्जरीट (दे २, ७०)। २ वृक्ष विशेष, 'ताडवडखञ्ज-जणमुक्खपरगहीरदुक्खसचारे' (स २५६)।
 खजण पु [दे] ? कदंम, कीचड (दे २, ६६, पात्र)। २ कजल, काजल, मपी (ठा ४, २)। ३ गाडी के पहिए के भीतर का काला कीच (परएण १७—पत्र ५२५)।
 खजर पु [दे] सूजा हुआ पेठ (दे २, ६८)।
 खजा बी [खजा] छन्द-विशेष (पिंग)।
 खजिअ वि [खजित] जो लगडा हुआ हो, पशुभूत (कम्प)।
 खड सक [खण्डय] तोडना, टुकडा करना, विच्छेद करना। खंडइ (हे ४, ३६७)। कवक खडिज्जत (से १३, ३२, सुपा १३४)। हेक खडित्तए (उवा)। कृ खडियठव (उप ६२८ टी)।
 खंड पु [खण्ड] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)। °कठ्व न [°कान्य] छोटा काव्यग्रन्थ (सम्मत्त ८४)।
 खड (अप) देखो खग्ग, 'सुंडीरह खडइ वमइ लच्छी' (भवि)।
 खड पुन [खण्ड] ? टुकडा, अरा, हिस्सा (हे २, ६७, कुमा)। २ चीनी, मिस्री (उर ६, ८)। ३ पृथ्वी का एक हिस्सा, 'खखड—' (सण)। °घडग पु [°घटक] भिक्षु का जल-पात्र (शाया १, १६)। °पवाया बी [°प्रपाता] वैशाख पर्वन की एक युफा (ठा २, ३)। °भेय पु [°भेड] विच्छेद-विशेष, पदार्थ का एक तरह का

पृथक्करण, पटके हुए घडे की तरह पृथक्ताव (भग ५, ४)। °मल्लय पुन [°मल्लक] मिना पात्र (शाया १, १६)। °सो अ [°शस्] टुकडा-टुकडा, खएड-खएड (पि ५१६)। °भेय देखो °भेय (ठा १०)।
 खड न [दे] ? मुरड, शिर, मस्तक। २ दाह का बरतन, मद्य-पात्र (दे २, ६८)।
 खडई बी [दे] असी, कुलटा (दे २, ६७)।
 खडग पुन [खण्डक] चौथा हिस्सा (पत्र १४३)।
 खडग न [खण्टक] शिखर-विशेष (ठा ६, इक)।
 खंडण न [खण्डन] ? विच्छेद, भञ्जन, नारा (शाया १, ८)। २ कएडन, धान्य वगैरह का खिलका अलग करना, 'खडणदलएणइ गिह कम्म' (सुपा १४)। ३ वि नारा करनेवाला, नाराक (सुपा ४३२)।
 खडणा बी [खण्डना] विच्छेद, विनाश (कम्प, निवू १)।
 खडपट्ट पु [खण्डपट्ट] ? छूतकार, ब्रह्मणे (विपा १, ३)। २ घूर्त, ठग। ३ अथाय से व्यवहार करनेवाला (विपा १, ३)।
 खडरकप पु [खण्डरक] ? दाएडपारिक, कोतवाल (शाया १, १, परह १, ३, औप)। २ शुल्कपाल, चुगी बसूल करनेवाला (शाया १, १, विसे २३६०, औप)।
 खडव न [खण्डव] इन्द्र का वन विशेष, जिसको अर्जुन ने जलाया था (नाड—त्रैणी ११४)।
 खडा बी [खण्ड] मिस्री, चीनी, शकर, नांड (भोग ३७३)।
 खडा बी [खण्डा] इस नाम की एक विद्या-प्र-कथा (महा)।
 खडागण्डि अ [खण्डगण्ड] टुकडा-टुकडा खएडखएड (उवा, शाया १, १६)। °डीकय वि [कृत] टुकडा-टुकडा किया हुआ (पुर १६, ५६)।
 खडामणिक्खण न [खण्डामणिक्खण] इस नाम का एक विद्या-प्र-नगर (अप)।
 खडावत्त न [खण्डावत्त] इस नाम का एक विद्या-प्र-नगर (अप)।

कुर न [दि कुरुक] माया, कपट (मम ७१)।
 कुर्या स्त्री [दि कुरुक] शरीर-प्रदालन,
 नान (वव १)।
 कुर देवो कुरर (कुमा)।
 कुरठ पु [दि] १ कुटिल केश, टेढा बाल (दि
 २, ६३ भवि)। २ वि निर्दय। ३ निपुण,
 चतुर (दि २, ६३)।
 कुरल अक [कु] श्रावाज करना, कौए का
 योना। कुरचहि (भवि)।
 कुरलिअन [कुन] वायस का शब्द कोए
 को श्रावाज (भवि)।
 कुर देवो कुरु (पउम ११८ ८३, भवि)।
 कुरुग दवा कुरुवय (सुपा ७७)।
 कुरुविद पु [कुरुविन्द] १ मणिविशेष, रत्न
 तो एव जानि (गउड)। २ तृण विशेष
 (पण १, पणह १, ४—पत्र ७८)। ३
 कुटिनर नामक रोग, एक प्रकार का जया
 गम 'एणिकुरिदचतवट्टाणुपुवज्जवे' (श्रीप)।
 कुरि पुन [वित्त] भूपण-विशेष (कप्प)।
 कुरिग स्त्री [कुरुविन्दा] इस नाम की एक
 गणिका (पउम ५५, ३८)।
 कुरिग [दि] देवो कुरचिह (पात्र)।
 कुर पुन [कुल] १ कुल, वंश जाति (प्राप्त
 १७)। २ पितृ वंश (उत्त ३)। ३ पत्नियार,
 कुटुम्ब (उप ६, ७७)। ४ नजातीय समूह
 (पण १, ३)। ५ गोत्र (मुपा ८, ठा ४, १)।
 ६ श्रावाज की मति (कप्प)। ७ घर
 (पण सूत्र १, ४, १)। ८ सान्निध्य,
 मार्ग्य (प्राप्त)। ९ ज्योतिष-शास्त्र प्रसिद्ध
 नक्षत्र (मुज १०, २५), 'कुनो, कुन'
 (११ ३३)। १० उच्च पु [पूर्व] पूरज,
 पुन-पुन (गउड)। ११ मम पु [क्रम]
 पुन-पुन का रिवाज (सट्टि
 २१)। १२ श्रावाज की गति (ठा १०)।
 १३ श्रावाज [श्रावाज] जाति विशेष (पत्र
 १५, ठा ६ १०)। १४ मम देवो मम
 (पउम)। १५ श्रावाज पु [क्रम] कुल की स्थापना
 का प्रारम्भ के नीति श्रावाज की
 स्थापना का प्रारम्भ (मम १०६
 पउम २)। १६ श्रावाज [श्रावाज] निरुक्त (मउ)।
 १७ श्रावाज [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। १८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। १९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। २९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ३९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ४९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ५९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ६९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ७९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ८९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९१ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९२ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९३ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९४ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९५ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९६ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९७ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९८ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। ९९ श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)। १०० श्रावाज
 [श्रावाज] निरुक्त (पउम)।

(द्र ५)। १ जाय वि [जात] कुलीन, खान-
 दानी कुल का (सुपा ५६८, पात्र)। २ जुअ
 वि [युत] कुलीन (पव ६४)। ३ गाम न
 [नामन] कुल के अनुसार किया जाता नाम
 (अणु)। ४ ततु पु [तन्तु] कुल-सतान,
 कुल-सतति (वव ६)। ५ तिलग पुन
 [तिलक] कुल में श्रेष्ठ (भग ११, ११)।
 ६ त्थ वि [स्थ] कुलीन, खानदानी वंश का
 (शाया १, ५)। ७ त्थेर पु [स्थविर] श्रेष्ठ
 साधु (पव)। ८ दिगयय पु [दिनकर]
 कुल में श्रेष्ठ (कप्प)। ९ दीव पु [दीप]
 कुल प्रकाशक, कुल में श्रेष्ठ (कप्प)। १० देव
 पु [देव] गोत्र-देवता (काल)। ११ दचया
 स्त्री [देवता] गोत्र-देवता (सुपा ५६७)।
 १२ देवी स्त्री [देवी] गोत्र देवी (सुपा ६०२)।
 १३ धम्म पु [धर्म] कुलाचार (ठा १०)।
 १४ पव्वय पु [पर्वत] पर्वत-विशेष (सम ६६,
 सुपा ४३)। १५ पुत्त पु [पुत्र] वंश रक्षक
 पुत्र (उत्त १)। १६ वालिया स्त्री [बालिका]
 कुलीन कन्या (सुर १, ४३, हंका ३०१)।
 १७ भूसण न [भूपण] १ वंश को दिपाने या
 चमकाने वाला। २ पु एक केवली भगवान्
 (पउम ३६, १२२)। ३ मयय पु [मद] कुल का
 अभिमान (ठा १०)। ४ मयहरिया, महत्त-
 रिया स्त्री [महत्तरिका] कुल में प्रधान
 स्त्री, कुटुम्ब की मुखिया (सुपा ७६, श्रावम)।
 ५ य देखो 'ज (सुपा ५६८)। ६ रोग पु
 [रोग] कुल व्यापक रोग (ज २)। ७ वइ पु
 [पति] तापनो का मुखिया, प्रधान सन्यासी
 (सुपा १६०, उप ३१)। ८ वस पु [वश]
 कुल हय वंश, वंश (भग ११, १०)। ९ वस
 पु [वश्य] कुल में उत्पन्न, वंश में सजात
 (भग ६, ३३)। १० वडिसय पु [वितसक]
 कुन-भूपण, कुल-दीपक (कप्प)। ११ वहु स्त्री
 [वयू] कुलीन स्त्री, कुनाङ्गना (धान ५,
 पि ३८७)। १२ सपण वि [सपन्न] कुलीन,
 खानदानी कुन मा (श्रीप)। १३ समय पु
 [समय] कुनावा (सूत्र १, १, १)।
 १४ मेल पु [मेल] कुन-पन्न (सुपा ६००,
 स ११६)। १५ मेलय स्त्री [मेलजा] कुल
 पर्वत में निरुक्त नदी, कुननयापि
 नरिया नृण नीययमगुन (सुपा ६००)।

१ हर न [गृह] पितृगृह, पिता का घर (गा
 १२१, सुपा ३६४, से ६, ५३)। २ जीव
 वि [जीव] अपने कुल की बड़ाई बतला
 कर श्राजीविका प्राप्त करनेवाला (ठा ५, १)।
 ३ य न [य] पक्षी का घर, नीड (पात्र)।
 ४ यार पु [चार] कुलाचार वंश-परम्परा
 से चला आता रिवाज (वव १)। ५ रिय पुं
 [रिय] पितृ-पक्ष की श्रेयसा से श्रायं (ठा ३,
 १)। ६ लय वि [लय] गृहस्थों के घर
 भीख मांगनेवाला (सूत्र २, ६)।
 कुल कर पु [कुलकर] इस नाम का एक राजा
 (पउम ८२, २६)।
 कुलप पु [कुलम्प] इस नाम का एक अनार्य
 देश। २ उसमें रहनेवाली जाति (सूत्र २, २)।
 कुलकुल देखो कुरकुर। कुलकुलइ (भवि)।
 कुलकय पु [कुलक्ष] १ एक म्लेच्छ देश।
 २ उसमें रहनेवाली जाति (पणह १, १, इक)।
 कुलाग पु [कुलार्थ] एक अनार्य देश (पव
 २७४)।
 कुलडा स्त्री [कुलटा] व्यभिचारिणी स्त्री,
 पुरचली (सुपा ३८४)।
 कुलथ पु स्त्री [कुलथ] अन्न-विशेष, कुलथी
 (ठा ५, ३, शाया १, ५)। स्त्री 'स्था (श्रा
 १८)।
 कुलफसण पु [दि] कुल-कलक, कुल का दाग,
 कुल की आपकीर्ति (दि २, ४२, भवि)।
 कुलय देखो कुडव (तडु २६, अणु १५१)।
 कुलय न [कुलक] तीन या चार से ज्यादा
 परस्पर सापेक्ष पत्र (समत्त ७६)।
 कुलल पु [कुलल] १ पक्षि-विशेष (पणह १,
 १)। २ गृह पक्षी (उत्त १४)। ३ कुरर
 पक्षी (सूत्र १, ११)। ४ मार्जार, बिडाल,
 'जहा कुनकुडपायस्स रिण्चं कुललथो भय'
 (वस ४)।
 कुललय पुन [दि] कुल्ला, गडूप (पव ३८)।
 कुलय देखो कुडव (जो २)।
 कुलमतइ स्त्री [दि] कुली चूहा (दि २, ३६)।
 कुलाअल पु [कुलाचल] कुलपर्वत (त्रि ८२)।
 कुलाग देखो कुगाल (राज)।
 कुलाल पु [कुलाल] कुम्भकार, कुम्हार (पात्र,
 गउड)।

खगि पु [खड्गिन्] जन्तु-विशेष, गेंडा (कुमा) ।

खगिअ पुं [दे] शमेश, गाँव का मुखिया (दे २, ६६) ।

खगिी स्त्री [खड्गी] विवेह वर्ष की नगरी-विशेष (ठा २, ३) ।

खगूळ वि [दे] १ शठ-प्राय, धूर्त-सदृश (शोध ३६ भा) । २ धर्मरहित, नास्तिक-प्राय (शोध ३५ भा) । ३ निद्रालु । ४ रस-लम्पट (बृह १) ।

खच सक [खच्] १ पावन करना, पवित्र करना । २ कसकर बाँधना । खचइ (हे ४, ८६) ।

खचिअ देखो खइअ = खचित (कुमा) । ३ पिञ्जरित (कम्प) ।

खचइ पुं [दे] ऋषभ भल्लूक, भालू (दे २, ६६) ।

खचोल पु [दे] व्याघ्र, शेर (दे २, ६६) ।

खज पु [खज] वृक्ष-विशेष (स २५६) ।

खज वि [खाद्य] १ खाने योग्य वस्तु (परह १, २) । २-ने खाद्य विशेष (भवि) ।

खज वि [क्षय्य] जिसका क्षय किया जा सके वह (षट्) ।

खजत देखो खा ।

खजग देखो खज = खाद्य (भग १५) ।

खजमाण देखो खा ।

खजय देखो खज = खाद्य (पचम ६६, १६) ।

खज्जअ वि [दे] १ जीर्ण, सदा हुआ । २ उपालम्ब, जिसको उलाहना दिया गया हो वह (दे २, ७८) ।

खजिर (अप) वि [खाद्यमान] जो खिया गया हो वह (सण) ।

खज्जू स्त्री [खजू] खुजली, पामा (राज) ।

खज्जूर पुं [खजूर] १ खजूर का पेड़ (कुमा, उत ३४) । २ न खजूर का फल (पचम ४१, ६, सुपा ५७) ।

खज्जूरी स्त्री [खजूरी] खजूर का गाछ (भाम, परण १) ।

खज्जोअ पु [दे] नक्षत्र (दे २, ६६) ।

खज्जोअ पु [खद्योत] कीट-विशेष, जुगद, (सुपा ४७, राणा १, ८) ।

खट्ट न [दे] १ तीमन, कडी, मोर (दे २, ६७) । २ वि खट्टा, अम्ल (परण १—पत्र २७, जीव १) । ३ मेह पु [मेघ] खट्टे जल की वर्षा (भग ७, ६) ।

खट्टग न [दे] छाया, आतप का अभाव (दे २, ६८) ।

खट्टग न [खट्टवाङ्ग] १ शिव का एक आयुध (कुमा) । २ चारपाई का पाया या पाटी । ३ प्रायश्चित्तात्मक भिक्षा मार्गते का एक पात्र । ४ तान्त्रिक मुद्रा-विशेष, 'हृत्पट्टियं कवालं, न मृगद त्रुणं क्षणपि खट्टगं सा तुह विरहे बालय, बाला कावालिणी जाया' (वजा ८८) ।

खट्टकखड पु [खट्टवाक्त्र] रत्नप्रभा नामक पृथिवी का एक नकरकावास, 'काल काऊण रयणम्भाए पुव्वीए खट्टकखडाभिहाए नरए पलिओवमाऊ चैव नारयो उचवन्नोत्ति' (स ८६) ।

खट्टा स्त्री [खट्टा] खाट, पलग, चारपाई (सुपा ३३७, हे १, १६५) । ३ मल्ल पु [मल्ल] वीमारी की प्रबलता से जो खाट से उठ न सकता हो वह (बृह १) ।

खट्टिअ } [दे खट्टिक] खट्टीक, सैनिक, खट्टिक } कसाई (गा ६८२, सूय २, २, दे २, ७०) ।

खड पुं [दे] एक स्तेच्छ-जाति (मुच्च १५२) ।

खड न [दे] तृण, घास (दे २, ६७, कुमा) ।

खडइअ वि [दे] संकुचित, सकोच-प्राप्त (दे २, ७२) ।

खडग न [पडङ्ग] छ अग, वेद के ये छ अग—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त । ३ वि [वित्] छहो अगो का जानकार (पि २६५) ।

खडकय पुन [खट्टकय] आहट देना, ध्वनि के द्वारा सूचना, सिकडी वगैरह की आवाज, 'वियडकवाडकजाए खडकओ निपुण्णिओ ततो' (सुपा ४१४) ।

खडकार पु [खट्टकार] ऊपर देखो (सुर ११, ११२, विक्र ६०) ।

खडकिआ } स्त्री [दे] खिडकी, छोटा द्वार खडकी } (कम्प, महा, दे २, ७१) ।

खडकिय देखो खडकय (धर्मवि ५६) ।

खडकखड पु [खट्टखट्ट] खट खट आवाज (मोह ८६) ।

खडकखर देखो छडकखर (सम्मत १४३) ।

खडखड पु [खडखड] देखो राडखड (इक) ।

खडखडग वि [दे] छोटा और लम्बा (राज) ।

खडट्टोविल पु [दे] एक स्तेच्छ जाति (मुच्च १५२) ।

खडणा स्त्री [दे] गैया, गौ (गा ६३६ अ) ।

खडहड पु [खट्टखट्ट] सकल वगैरह की आवाज, खटकार (सुपा ५०२) ।

खडहडी स्त्री [दे] जन्तु-विशेष, गिलहरी, गिल्ली (दे २, ७२) ।

खडिअ देखो खट्टिअ (गा ६८२ अ) ।

खडिअ देखो खडिअ (गा १६२ अ) ।

खडिअ पु [दे] दवात, स्याही का पात्र (धर्मवि ५७) ।

खडिआ स्त्री [खट्टिका] खडी, सडकों को लिखने की खडी या खडिया (कम्प) ।

खडी स्त्री [खटी] ऊपर देखो (प्राक) ।

खडुआ स्त्री [दे] मौक्तिक, मोती (दे २, ६८) ।

खडुक अक [आविस् + भू] प्रकट होना, उत्पन्न होना । खडुकति (वजा ४६) ।

खडुक } पुष्पी [दे] मृद सिर पर उगती खडुग } का आघात (वव १) ।

खडु सक [मृद] मर्दन करना । खडुइ (हे ४, १२६) ।

खडु } न [दे] १ शमथ, दाही-मूँछ (दे २, खडुग } ६६, पात्र) । २ बडा, महापु (निते २५७६ टी) । ३ गर्त के आकारवाला (रग) ।

खडुा स्त्री [दे] १ खानि, आकार (दे २, ६६) ।

२ पर्वत का खात, पर्वत का गर्त (दे २, ६६) । ३ गर्त, गड्ढा, खड्डा (सुर २, १०३, स १५२, सुपा १५, आ १६, महा, उत २, पचा ७) ।

खडुिअ वि [मृदित] जिसका मर्दन किया गया हो वह (कुमा) ।

खडुडुया स्त्री [दे] जोवर, आघात, 'खडुडुया मे चवेडा मे' (उत १, ३८) ।

खडुडुलय पु [दे] खडा, गर्त, गड्ढा (स ३६२) ।

खण सक [खण] बोदना । खणइ (महा) ।

कर्म पम्मइ, परिणज्जइ (हे ४, २४४) ।

वह खणेमाण (सुर २, १०३) । सं-

कुसोलव पु [कुशीलव] अभिनयकर्ता नट (नपुं) ।

कुसुम पुन [कुसुम्भ] १ वृक्ष-विशेष, कसुम, वरं (ठा ८—पत्र ४०५) । २ न कुसुम का पुष्प, निमरा रग बनता है (ज २) । ३ रग-विशेष (श्रा १२) ।

कुसुमिअ वि [कुसुम्भित] कुसुम्भ रगवाला (श्रा १२) ।

कुसुमिल पु [दे] विशुन, दुर्जन, चुगलखोर (दे २, ८०) ।

कुसुमी स्त्री [कुसुम्भी] वृक्ष-विशेष, कुसुम का पेड़ (पात्र) ।

कुसुम अक [कुसुमय्] फूल आना । कुसु-मति (सवीष ४७) ।

कुसुम न [कुसुम] १ पुष्प, फूल (पात्र. प्रासू ३४) । २ पृ इस नाम का भगवान् पंचप्रभ का गामनाचिष्टायक यज्ञ (सति ७) । 'केड पु [रुतु] अणवर द्वीप का अचिष्टायक देव (दीन) । 'चाय, 'चाव पु [चाप] कामदेव, मकरद्वज (मुपा ५६, ५३०, मरा) । 'ज्मय पु [ध्वज] वसन्त ऋतु (गुमा) । 'णयर न [नगर] नगर-विशेष, पाटलिपुत्र, आजकल जो 'पटना' नाम से प्रसिद्ध है (आवम) । 'टत पु [दन्त] एक तीरदार देव का नाम, इस अक्षरपिणो काल के नयनें जिनदेव, श्री मुविधिनाथ (पउम १, ३) । 'दाम न [दामन्] फूलों की माला (दरा) । 'धणु न [धनुप्] कामदेव (कुमा) । 'पुर न [पुर] देवों ऊपर 'णर (उप ४६६) । बाण पु [बाण] कामदेव (मुर ३, १६२, पात्र) । 'रअ पु [रजस्] मकरन्द (पात्र) । 'रप पु [रट] देवों दत्त (पउम २०, ५) । 'लरा श्री [लता] छन्द-विशेष (मजि १५) । 'मभर पु [संभर] मधुगान, चैतमान (पात्र) । 'मर पु [शर] कामदेव (मुर ३, १०६) । 'अर पु [अर] इस नाम का एक देव (पिंग) । 'उड पु [अधु] काम, कामदेव (म ५३८) । 'उर श्री [उरता] कामदेव की एक नारी (पउम ५, २६) । 'मिअ पु [मिअ] मित्र, पराग, पुष्प-रस (गाना १, १, पौण) ।

कुसुमसभव पु [कुसुमसम्भव] वैशाख मास का लोकोत्तर नाम (सुज १०, १६) ।

कुसुमाल वि [कुसुमवत्] फूलवाला (स ६६७) ।

कुसुमाल पु [दे] चोर, स्तेन (दे २, १०) ।

कुसुमालिअ वि [दे] शून्य-मनस्क, भ्रान्त-चित्त (दे २, ४२) ।

कुसुमिअ वि [कुसुमिन] पुष्पित, पुष्प-युक्त, खिला हुआ (गाथा १, १, पउम ३३, १४८) ।

कुसुमिल्ल वि [कुसुमवत्] ऊपर देखो (मुपा २२३) ।

कुसुर [दे] देखो भसुर (हे २, १७४ टि) ।

कुसूल पु [कुशल] कोष्ठ, अन्न रखने के लिए मिट्टी का बना एक प्रकार का बड़ा पात्र (पात्र) ।

कुसुमिण पु [कुसुमिण] दुष्ट स्वप्न (सवीष ४२) ।

कुह अक [कुथ्] सड़ जाना, दुर्गन्धी होना । कुहइ (भवि, हे ४, ३६५) ।

कुह पु [कुह] वृक्ष, पेड़, गाछ, 'कुहा महीरहा वच्छा' (वसनि १) ।

कुह देखो रुह (गा ५०७ अ) ।

कुहड पु [कूप्माण्ड] व्यन्तर देवों की एक जाति (श्रीप) ।

कुहड न [कूप्माण्ड] १ कुम्हड़ा, पेठा, कोहँडा (कम्म ५, ८५) ।

कुहडिया स्त्री [कूप्माण्डी] कोहँडा का गाछ (राय) ।

कुहकक } देखो कुहय (धर्मि १३५, कुप्र ८) ।
कुहगा }

कुहगा पु [कुहक] कन्द-विशेष, 'लाहिणीहू य थीहू य, कुहगा य तहेव य' (उत्त ३६, ६६ का) ।

कुहड वि [दे] कुञ्ज, कूबड़ा (दे २, ३६) ।

कुहण पु [कुहन] १ वृक्षों का एक प्रकार, वृक्षों की एक जाति, 'सि कि त कुहणा ? कुहण अण्णेगिहा परणत्ता' (परण १—पत्र ३५) । २ बनस्पति-विशेष । ३ भूमि-स्फोट (परण १—पत्र ३०, आचा) । ४ देश-विशेष । ५ इनमें रहनेवाली जाति (परह १, १—पत्र १४, टक) ।

कुहण वि [क्रोधन] क्रोधी, क्रोध करनेवाला (परह १, ४—पत्र १००) ।

कुहणी स्त्री [दे] कूपर, हाथ का मध्य-भाग (मुपा ४१२) ।

कुहय पुन [कुहक] १ वायु-विशेष दौड़ते हुए अश्व के उदर-प्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक प्रकार का वायु, 'घण्णज्जिय-हयकुहए (गच्छ २) । २ इन्द्रजालादि कौतुक, 'श्रोल्लुए अक्कुहए अमाई (दस ६, ३) ।

कुहर न [कुहर] १ पर्वत का अन्तराल (गाथा १, १—पत्र ६३), 'गेहव वित्तरहिअ रिण्णरकुहर व सलिलमुएणविअ' (गा ६०७) । २ छिद्र, बिल, विवर (परह १, ४, पासू २) । ३ पु व देश-विशेष (पउम ६८, ६७) ।

कुहाड पु [कुठार] कुल्हाड़ा, फरसा (विपा १, ६, पउम ६६, २४, स २१४) ।

कुहाडी स्त्री [कुठारी] कुल्हाड़ी, कुठार (उप १६३) ।

कुहावणा स्त्री [कुहना] १ आश्चर्य-जनक, दम्भ-क्रिया, दम्भ-चर्या । २ लोगो से द्रव्य हासिल करने के लिए किया हुआ कपट-भेष (जीत) ।

कुहिअ वि [दे] लिप्त, पोता हुआ (दे २, ३५) ।

कुहिअ वि [कुथित] १ थोड़ी दुर्गन्धवाला (गाथा १, १२—पत्र १७३) । २ सड़ा हुआ (उप ५६७ टी) । ३ विनष्ट (गाथा १, १) । 'पूइय वि [पूतिक] अत्यन्त सड़ा हुआ (परह २, ५) ।

कुहिणी स्त्री [दे] १ कूपर, हाथ का मध्य भाग । २ रव्या, महल्ला (दे २, ६२) ।

कुहिल पुत्री [कुहुमत्] कोयल पक्षी (पिंग) ।
कुहु स्त्री [कुहु] कोकिल पक्षी की आवाज (पिंग) ।

कुहुण देखो कुहण = कुहन (उत्त ३६, ६६ का) ।

कुहुव्यय पु [कुहुव्रत] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८) ।

कुहेड पु [दे] श्रोपवी-विशेष, गुरेटक, एक प्रकार का हर का गाछ (दे २, ३५) ।

कुहेड } पु [कुहेट, क] १ चमत्कार
कुहेडअ } उपजानेवाला मन्त्र तन्त्रादि ज्ञान,

खमावणया } स्त्री [क्षमणा] खमाना, माफी
 खमावणा } माँगना (भग १७, ३, राज) ।
 खमाविय वि [क्षमित] माफ किया हुआ
 (हे ३, १५२, सुपा ३६४) ।
 खमिय वि [क्षमित] माफ किया हुआ
 (कुप्र १६) ।
 खम्म देखो खण = खन् । खम्मइ (प्राकृ ६८) ।
 खम्मक्खम पुं [दे] १ सग्राम, लडाईं । २
 मन का दु ख । ३ पश्चात्ताप का निश्वास
 (दे २, ७६) ।
 खय देखो खच । खयइ (पड) ।
 खय अक [क्षि] क्षय पाना, नष्ट होना । खयइ
 (पड) ।
 खय देखो खग (पाप्र) । ३ आकाश तक ऊँचा
 पहुँचा हुआ (से ६, ४२) । १ राय पु [राज]
 पक्षिमो का राजा, गहड-पक्षी (पाप्र) । ३ वइ
 पुं [पति] गहड-पक्षी (से १५, ५०) ।
 खय न [क्षत] २ ब्रण, घाव, 'खारक्खेव व
 खए' (सप ७२८ टी) । २ वि ब्रणित,
 घवाया हुआ, 'सुराओव्व कीडलओ' (आ
 १४, सुपा ३४६, सुर १२, ६१) । १ यार
 स्त्री पु [चार] शिथिलाचारी साधु या
 साष्ठी (वच ३) ।
 खय वि [खात] खोदा हुआ (पउम ६१,
 ४२) ।
 खय पु [क्षय] १ क्षय, प्रलय, विनाश (भग
 ११, ११) । २ रोग-विशेष, राज-यक्ष्मा
 (लहुम १५) । ३ कारि वि [कारिन्] नाश-
 कारक (सुपा ६५५) । ४ काल, गाल पु
 [काल] प्रलय काल, (भवि, हे ४, ३७७) ।
 ५ गिग पुं [गिगि] प्रलय-काल की आग (से
 १२, ८१) । ६ नाणि पु [ज्ञानिन्] केवल-
 ज्ञानी, परिपूर्ण ज्ञानवाला, सर्वज्ञ (विसे
 ५१८) । ७ समय पुं [समय] प्रलय-काल
 (लहुम २) ।
 खयकर वि [क्षयकर] नाश-कारक (पउम ७,
 ८१, ६६, ३४, पुपफ ८२) ।
 खयंतकर वि [क्षयान्तकर] नाश-कारक
 (पउम ७, १७०) ।
 खयर पुत्री [खचर] १ आकाश में चलने-
 वाला, पक्षी (जी २०) । २ विद्याधर, विद्या
 वल से आकाश में चलनेवाला मनुष्य (सुर

३, ८८, सुपा २४०) । १ राय पु [राज]
 विद्याधरो का राजा (सुपा १३४) ।
 खयर देखो खइर = खदिर (अन्त १२, सुपा
 ५६३) ।
 खयरक वि [खादिरक] खदिर-सम्बन्धी । स्त्री ।
 का (सुख २, ३) ।
 खयाल पुन [दे] वश जाल, वाँस का वन
 (भवि) ।
 खर अक [क्षर] १ भरना, टपकना । २
 नष्ट होना । खरइ (विसे ४५५) ।
 खर वि [खर] १ निष्ठुर, खवा, पल्प, कठोर
 (सुर २, ६, दे २, ७८, पाप्र) । २ पुष्पी
 गर्दभ, गधा (पएह १, १, पउम ५६, ४४) ।
 ३ पु. छन्द-विशेष (पिग) । ४ न तिल का
 तेल (ओष ४०६) । ५ कंट न [कण्ट] बबूल
 वगैरह की शाखा (ठा ३, ४) । ६ कड न
 [काण्ड] रत्नप्रभा पृथिवी का प्रथम कारण-
 अश-विशेष (जीव ३) । ७ कम्म न [कर्मन्]
 जिसमें अनेक जीवों की हानि होती हो ऐसा
 काम, निष्ठुर घधा (सुपा ५०५) । ८ कम्मिअ
 वि [कर्मिन्] १ निष्ठुर कर्म करनेवाला ।
 २ पुं कोतवाल, दाएडपाशिक (ओष २१८) ।
 ३ किरण पु [किरण] सूर्य, सूरज (पिग,
 सण) । ४ दूसण पु [दूपण] इस नाम का
 एक विद्याधर राजा, जो रावण का बहनोई
 था (पउम १०, १७) । ५ नहर पु [नखर]
 स्वापद जन्तु, हिसक प्राणी सुपा १३६,
 ४७४) । ६ निस्सण पु [निस्वन]
 इस नाम का रावण का एक सुभट
 (पउम ५६, ३०) । ७ मुह पु [मुख]
 १ अनार्य, देश-विशेष । २ अनार्य देश-विशेष
 का निवासी (पएह १, ४) । ८ मुही स्त्री
 [मुखी] १ वाद्य-विशेष (पउम ५७, २३,
 सुपा ५०, औप) । २ नपुसक दासी (वच
 ६) । ९ यर वि [तर] १ विशेष बठोर
 (सुपा ६०६) । २ पु. इस नाम का एक
 जैन गच्छ (राज) । ३ सन्नय न [सन्नक]
 तिल का तेल (ओष ४०६) । ४ साविआ स्त्री
 [शाविना] लिपि-विशेष (सम ३५) ।
 ५ स्सर पु [स्वर] परमाध्यात्मिक देवों की
 एक जाति (सम २६) ।

खर वि [क्षर] विनश्वर, धस्यायी (विन
 ४५७) ।
 खरट सक [खरण्ट्य] १ धृत्कारना, निर्भ
 र्तना करना । २ लेप करना । खरटए (सूक
 ४६) ।
 खरट वि [खरण्ट] १ धृत्कारनेवाला, तिर-
 स्कारक । २ उपलित करनेवाला । ३ श्रुति
 पदार्थ (ठा ४, १, सूक ४६) ।
 खरटण न [खरण्टन] १ निर्भर्त्सन, पल्प
 भाषण (वच १) । २ प्रेरणा (ओष ४० ना) ।
 खरटणा स्त्री [खरण्टना] ऊपर देखो (पाप
 ७५) ।
 खरंठिअ वि [खरण्टित] निर्भर्त्सित (कुप्र
 ३१८) ।
 खरसुया स्त्री [दे] वनस्पति विशेष (सवाव
 ४४) ।
 खरड पु [दे] हाथों की पीठ पर विद्याया
 जाता आस्तरण (पव ८४) ।
 खरड सक [लिप्] लेपना, पोतना । रंङ.
 खरडिअ वि [लिप्] (सुपा ४१५) ।
 खरड पु [खरट] एक जघन्य मनुष्य जाति,
 'अह केणइ खरडेण किण्णिह हट्टिमि वण्ण
 णियस्स' (सुपा ३६२) ।
 खरडिअ वि [दे] १ खड, खला । २ भन्न,
 नष्ट (दे २, ७६) ।
 खरडिअ वि [लिप्] जिसको लेप किया गया
 हो वह, पोता हुआ (ओष ३७३ टी) ।
 खरण न [दे] बबूल वगैरह की कण्टक मम
 डाली (ठा ४, ३) ।
 खरफरुस पु [खरपरुप] एक नरक न्यात
 (देवेन्द्र २७) ।
 खरय पु [खरक] भगवान् महावीर के नाम
 में से खोला (मास कील) निकाननेमाना एत
 वेद्य (वेद्य ६६) ।
 खरय पु [टे] १ कर्मकर, नीचर (पिग
 ४३८) । २ राहु (भग १२, ६) ।
 खरहर अक [खरहराय] 'खर-हर' भावान-
 करना । बहू खरहरत (गडड) ।
 खरहिअ पु [दे] नीच, पोता, पुत्र का पुत्र
 (दे २, ७२) ।
 खरा स्त्री [खरा] जन्तु विशेष, नेपना की तरह
 भुज से चलनेवाला जन्तु विशेष (जीव २) ।

भामाण मम कूय नो ह्वमागच्छद्, तए ए
अह देवा० ज तुम ववसि तस्स आणाओवा-
यवणएण्हिमे चिट्ठिस्सामि' (राया १,
१६-पत्र २१५), 'दोवईए कूवगगाहा' (उप
६४८ टी, दे ६, ६२) ।

कूय } पु [कूप, क] १ कूप, कुआ,
कूयग } गर्त (प्रासू ४५) । २ स्नेह-पात्र,
कूयय } कुतुप, कुप्पा (वजा ७२, उप पृ
४१२) । ३ जहाजका मय्य स्तम्भ, जहापर पाल

व घा जाता है (श्रीप, राया १, ८) । तुला
श्री [तुला] कूपतुला, हेंकुवा (दे १, ६३,
८७) । भड्डक पु [मण्डक] १ कूप का
मेटा । २ अल्पज मनुष्य, जो अपना घर
छोट बाहर न जाता हो (निचू १) ।

कूयप पु [कूपक] देखो कूय = कूप (रयण
३२) । म्वनाम प्रसिद्ध एक जैन मुनि (अत
३) ।

कूयप पुन [कूयप] १ जहाज का एक अवयव,
जहाज का मुन-भाग, सञ्चरिणयकट्टकूवर
(राया १, ६-पत्र १५७) । २ रथ या
गाणे यौरह का एक अवयव, युगन्वर (मे
१२, ८४) ।

कूयल १ [दे] जवन-वन्न (दे २, ४३) ।

कूयिण न [कूयित] अव्यक्त शब्द, 'तह कव्वि
गुणः ना सुखयूविय तप्पुरो जेण' (मुपा
१८८) ।

कूयिण पु [कूपिक] इस नाम का एक सनि-
वेग-भाव (आवम) ।

कूयिण नि [दे] मोप-व्यावत्तक, चुराई हुई
घोर ती गाज कर उठे लानेना (राया
१, ८-पत्र २३६) । २ चार की खोज
करनेना (राया १, १) ।

कूयिणा गो [कूपिका] १ छोटा रूप (उप
७२८ टी) । २ छाटा स्नेह-पात्र, तुप्पी (राज) ।

कूयि गो [कूपी] ऊपर देतो, एयाओ अमय-
कूयाओ' (उप ७२८ टी) ।

कूयिण २ [दे] गर्तागर्त गर्त लेना म्यान,
गर्तगर्तगर्तगर्त (दे २, ४४,
८५) ।

कूयिण ३ [कूयिण] कूयिण देना की एव
जिण (पत्र १, ४) ।

केकसी [की] कान्ति, नीरता । केक केक
(२, १) ।

के वि [क्रियत्] कितना ? चिरेण अ
[चिरेण] कितने समय मे ? (अत २४) ।

चिरेण अ [चिरेण] कितने समय तक ? (पि
१४६) । चिरेण देखो चिरेण (पि
१४६) । दूर न [दूर] कितना दूर ?

'केदूरे सा पुरी लका ?' (पउम ४८, ४७) ।

महालय वि [महालय] कितना बडा ?
(राया १, ८) । महालय वि [महत्]

कितना बडा ? (परण २१) । महिड्डिय
वि [महद्धिक] कितनी बडी ऋद्धिवाला
(पि १४६) ।

केअइ पु [केकय] देश-विशेष, जिसका आधा
भाग आर्य और आधा भाग अनार्य है, सिन्धु

देश की सीमा पर का देश (इक), 'केयइ-
अइड च आरिय भणिय' (परण १, सत्त ६७
टी) ।

केअई ली [केतकी] वृक्ष-विशेष, केवडा का
वृक्ष (कुमा, दे ८, २५) ।

केअग } पु [केतक] १ वृक्ष-विशेष, केवडा
केअय } का गाछ, केतकी (गउड) । २
न केतकी-पुष्प, केवडा का फूल (गउड) । ३
चिन्ह, निशान (ठा १०) ।

केअगी ली [केतकी] १ केवडा का गाछ या
पौधा । २ केवडा का फूल (राय ३४) ।

केअल देखो केवल (अभि २६) ।

केअव देखो कइअव = कैतव, 'ज केअवेण
पिम्म' (गा ७४४) ।

केआ ली [दे] रज्जु, रस्ती (दे २, ४४,
भग १३, ६) ।

केआर पु [केदार] १ क्षेत्र, खेत (सुर २,
७८) । २ आलवाल, क्यारी (पात्र, गा
६६०) ।

केआरवाण पु [दे] वृक्ष-विशेष, पलाश का
पेड (दे २, ४५) ।

केआरिआ ली [केदारिका] धामवाली
जमीन, गोचर भूमि (कण्ठ) ।

केउ पु [केतु] १ ध्वज, पताका (मुपा
२२६) । २ ग्रह-विशेष (सुज २०, गउड) ।

३ चिन्ह, निशान (श्रीप) । ४ तूल सूय, रुई
या सूता (गउड) । 'खेत्त न [केत्र] मेघ-वृष्टि
ने हो जिममे अन्न पैदा हो मरता हो ऐसा
मेघ-विशेष (आन ६) । 'मई ली [मती]

किन्नेन्द्र और किपुषेन्द्र की अग्र-महिषी का
नाम, इन्द्राणी-विशेष (भग १०, ५, राया
२) । 'माल न [माल] वैताब्ब पर्वत पर

स्थित इस नाम का एक विद्याघर-नगर (इक) ।

केउ पुं [दे] कन्द, कांदा (दे २, ४४) ।

केउ पुन [केतु] एक देवविमान (देवेन्द्र
१३४) ।

केउग } पुं [केतुक] पाताल-कलश-विशेष
केउय } (सम ७१, ठा ४, २-पत्र २२६) ।

केऊर पुन [केयूर] १ हाथ का आभूषण-
विशेष, अङ्गद, बाजूबन्द (पात्र, भग ६, ३३) ।

२ पु दक्षिण समुद्र का पाताल-कलश (पव
२७२) ।

केऊरपुत्त पुं [दे] गाय तथा भैंस का बच्चा
(संक्षि ४७) ।

केऊव पु [केयूप] दक्षिण समुद्र का एक
पालाक-कलश (इक) ।

केऊय अक [केऊय] 'के-के' आवाज
करना । वक्क 'पेच्छइ तथो जडागि केऊयतं
महोपडिय' (पउम ४४, ५४) ।

केऊय देखो किमुअ (कुमा) ।

केऊई ली [केऊयी] १ राजा दशरथ की एक
रानी, केकय देश के राजा की कन्या (पउम
२२, १०८, उप पृ ३७) । २ आठवें वासुदेव

की माता (सम १५२) । ३ अपर-विदेह के
विभीषण-वासुदेव की माता (आवम) ।

केकय पु [केकय] १ देश विशेष, यह देश
प्राचीन वाह्लीक प्रदेश के दक्षिण की ओर
तथा सिंधु देश की सीमा पर स्थित है । २
इस देश का रहनेवाला (परह १, १) । ३
केकय देश का राजा (पउम २२, १०८) ।

केकसिया ली [केकसिका] रावण की माता
का नाम (पउम ७, ५४) ।

केका ली [केका] मयूर-वाणी । 'रव पुं
[रव] मयूर की आवाज, मयूर-शब्द (राया
१, १-पत्र २५) ।

केकाइय न [केकायित] मयूर का शब्द (मुपा
७६) ।

केकाई देनो केकाई (पउम ७६, २६) ।

केकय देनो केकय (पव २७४) ।

केकसी ली [केकसी] रावण की माता (पउम
१०३, ११४) ।

१, १८) । संकृ. खवइत्ता, खवित्तु, खवेत्ता (भग १५, सम्य १६, भौप) ।

खव पु [दे] १ वाम हस्त, बायाँ हाथ । २ - गर्दम, रासम (दे २, ७७) ।

खवग वि [क्षपक] १ नाश करनेवाला, क्षय करनेवाला । २ पुं तपस्वी जैन-मुनि (उव. भाव ८) । ३ वि क्षपक श्रेणि में ग्राहक (कम्म ५) । ०सेडि वी [श्रेणि] क्षपण-कम्म, कर्मों के नाश की परिपाटी (भग ६ ११, उवर ११४) ।

खवडिअ वि [दे] स्वलित, स्वलन-प्राप्त (दे २, ७१) ।

खवग } न [क्षपण] १ क्षय, नाश (जीत) ।
खवणय } २ डालना, प्रक्षेप (कम्म ४, ७५) ।

३ पु. जैन-मुनि (विसे २५८५, मुद्रा ७८) ।
खवण देखो खमण, 'विहिय पक्खवणणे सो' (धर्म २३) ।

खवणा वी [क्षपणा] अच्ययन, शास्त्र-प्रकरण (अणु २५०) ।

खवय पु [दे] स्कन्ध, कंधा (दे २, ६७) ।
खवय देखो खवग (सम २६, आरा १३, आचा) ।

खवलिअ वि [दे] कृपित, क्रुद्ध (दे २, ७२) ।
खवल्ल पुं [खवल्ल] मत्स्य-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८३ टी) ।

खवा वी [क्षपा] रात्रि, रात । ०जल न [जल] आवश्यक, हिम (ठा ४, ४) ।

खविअ वि [क्षपित] १ विनाशित, नष्ट किया हुआ (सुर ४, ५७, प्राप) । २ उद्वेजित (गा १३४) ।

खव्व पु [दे] १ वाम कर, बायाँ हाथ । २ रासम, गधा (दे २, ७७) ।

खव्व वि [खवे] वामन, कुब्ज, नाटा (पात्र) ।

खव्व वि [खवे] लघु, थोड़ा, 'अखव्वगव्वो वमो भामि' (सिरि ६७५) ।

खव्वुर देखो ऋवुर (विक्र २८) ।

खव्वुल न [दे] भ्रूँह, मुख (दे २, ६८) ।

खस अक [दे] खिसकना, गिर पडना । खसइ (पिंग) ।

खस पु व [खस] १ अनार्य देश-विशेष, हिन्दुस्थान के उत्तर में स्थित इस नाम का एक पहाड़ी मुक्त (पउम ६८ ६६) । २ पुत्री

खस देश में रहनेवाला मनुष्य (पएह १—पत्र १४, इक) ।

खसखस पु [खसखस] पोस्ता का दाना, उशीर, खस (स ६६) ।

खसफस अक [दे] खसना, खिसकना, गिर पडना । वक्क खसफसेमाण (सुर २, १५) ।
खसफसि वि [दे] व्याकुल, अवीर । ०हुअ वि [भूत] व्याकुल बना हुआ (हे ४, ४२२) ।

खसर देखो कसर = दे कसर (ज २, स ४८०) ।

खसिअ देखो खइअ = खचित (हे १, १६३) ।

खसिअ न [कसित] रोग-विशेष, खाँसी (हे १, १८१) ।

खसिअ वि [दे] खिसका हुआ (सुपा २८१) ।

खसु पुं [दे] रोग-विशेष, पामा, गुजराती में 'खस' (सण) ।

खह पुं [खह] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७५) ।

खह देखो ख (ठा ३, १) ।

खहयर देखो खयर (भौप, विपा १, १) ।

खहयरी वी [खचरी] १ पक्षिणी, मादा पक्षी । २ विद्याधरी, विद्याधर की वी (ठा ३, १) ।

खा } सक [खाद्] खाना, भोजन करना,
खाअ } भक्षण करना । खाइ, खाअइ, खाअ (हे ४ २२८) । खति (सुपा ३७०, महा) ।

भवि खाहिइ (हे ४, २२८) । कर्म खजइ (उव) । वक्क खत, खायत, खायमाण (कर १४, पउम २२, ७५, विपा १, १), 'खता पिअता इह जे मरति, पुणोवि ते खति पिअति रायं' (कर १४) । कवक्क खज्जत, खज्जमाण (पउम २२, ४३, गा २४८, पउम १७, ८१, ८२, ४०) । हेक्क खाइअ (पि ५७३) ।

खाअ वि [ख्यात] प्रसिद्ध, विश्रुत (उप ३२६, ६२३, नव २७, हे २, ६०) । ०कित्तीय वि [०कीत्तिक] यशस्वी, कीर्तिमान् (पउम ७, ४८) । ०जस वि [०यजम्] वही अर्थ (पउम ५, ८) ।

खाअ वि [खादित] भुक्त, भक्षित, खाउगि-रण— (गा ६६८, भवि) ।

खाअ वि [खात] १ खुदा हुआ । २ न, बुदा हुआ जलाशय, 'खामोदगाइ' (कम्म) । ३ ऊपर में विस्तारवाली और नीचे में संकुचित ऐसी परिखा । ४ ऊपर और नीचे समान रूप से खुदी हुई परिखा (भौप) । ५ खाई, परिखा पात्र) ।

खाइ वी [खाति] खाई, परिखा (सुपा २६४) ।
खाइ वी [ख्याति] प्रसिद्धि, कीर्ति (सुपा ५२६, ठा ३, ४) ।

खाइ [दे] देखो खाइ (भौप) ।

खाइअ देखो खइअ = क्षायिक (विसे ४६, २१७५, सत्त ६७ टी) ।

खाइअ वि [खादित] खाया हुआ, भुक्त, भक्षित (प्राप, निर १, १) ।

खाइआ वी [दे खातिआ] खाई, परिखा (दे २, ७३, पात्र, सुपा ५२६, भा ५, ७, पएह २, ५) ।

खाइ अ [दे] १—२ वाक्य की शोभा और पुन शब्द के अर्थ का सूचक अव्यय (भग ५, ४, भौप) ।

खाइअ देखो खाइअ = क्षायिक (सुपा ५५१) ।

खाइअ न [खादिअ] अन्न-वर्जित फल, भौषण वगैरह खाद्य चीज (मम ३६, ठा ४२, भौप) ।

खाइर वि [खादिर] खदिर-वृक्ष-सम्बन्धी, रौर का, कत्यई (हे १, ६७) ।

खाउय न [खाउय] खाउपदार्थ (मूलशुद्धि गा० १७१, देवदिन कथा गा ६ पद्यी) ।

खाओवसम } देखो खओवसमिय (सुपा
खाओवसमिअ } ५५१ ६४८, सम्य २३) ।

खाओवसमिअ देखो ग्याओवसमिअ (मग्ग ६८, मम्मक्खो ५) ।

खाडइअ वि [दे] प्रतिफलित, प्रतिविम्बित (दे २ ७३) ।

खाडखड पु [खाडखड] चौपी नरक-मुक्ति का एक नरकावाम (ठा ६) ।

खाडहिन्हा वी [दे] एक प्रकार का जानवर, गिनट्टी, गिल्ली (पएह १, १, उप पु ३०५ विसे ३०४ टी) ।

खाण पु [दे] एक स्नेह्यवादि (मृग्ग १५२) ।

खाण न [खाडन] भोजन, भक्षण; गाणं

केरली स्त्री [कवली] ज्योतिष विद्या-विशेष (हान्य १२६, १२६)।

केम पु [केश] केश, बाल (उप ७६८ टी, प्रयो २६)। °पुर न [°पुर] वैशाख पर म्वित एक विद्याधर-नगर (इक)। °लोअ पु [°लोच] केशो का उन्मूलन (भग, परह २, ४)। °वाणिज्ज न [°वाणिज्य] केश-वाले जीवों का व्यापार (भग ८, ५)। °हृत्थ, °हृत्थय पु [°हृस्त, °क] केशपाश, समा-रचिन केश, सयत बाल (कम्प, पात्र)।

केस देनो केरिस। स्त्री °सी (अणु १३१)।

केम देनो किलेस (उप ७६८ टी, वम्म २०)।

केसर पु [केशीश्वर] उत्तम कवि, श्रेष्ठ कवि (उप ७२८ टी)।

केसर पुन [कसर] एक देवविमान (देवेन्द्र १४२)।

केसर पुन [कसर] १ पुष्प-रेणु, पराग, किजल्क (म १, ५०, दे ६, १२)। २ सिंह बगीरह के बंधा था बाल, केसरा (मै १, ५०, सुपा २१४)। ३ पु बकुल वृक्ष (कम्प, गउड, पात्र)। ४ न इस नाम का एक उग्रान, पाम्बिन्य नगर का एक उपवन (उत्त १७)। ५ पन विशेष (राज)। ६ मुनएँ, सोना। ७ प्रद विशेष (हे १, १४६)। ८ पुष्प-विशेष (गउड ११२२)।

केमरा गो [केमरा] १ सिंह बगीरह के म्बन्ध पर के बानो गो मटा, 'केमरा य नोहाएण' (प्रार ११, १३, प्रामा)।

केमरि पु [केसरिन] १ सिंह, वनराज, राजेण्य (उप ७२८ टी, मे ८, °४, परह १, १)। २ हृद-विशेष, नीनयन्त पर्यंत पर (मन १०४)। ३ नृप-विशेष, राजेण्य के वासुदेव प्रति वासुदेव (मम १४)। °नह पु [°नह] २२ विशेष (ठा २१)।

केमरि गो [केमरिन] गऊ करने का (मम १४)।

केमरि वि [केमरयन] गन-गाना (मम १४)।

केमरा [केमरा] गन-केमरि गो विद-

डकुडियद्धत्तल्लुयकुसपवित्तयकेसरोहत्थगए (गाया १, ५—पत्र १०५)।

केसव पु [केशव] १ अर्धचक्रवर्ती राजा (सम)। २ श्रीकृष्ण वासुदेव, नारायण (गउड)।

केसि वि [केशिन] क्लेश-युक्त, किनष्ट (विसे ३१५४)।

केसि पु [केशि] १ एक जैन मुनि, भगवान् पार्वनाथ के शिष्य (राय, भग)। २ असुर-विशेष, अश्व के रूप को धारण करनेवाला एक देव्य, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था (मुद्रा २६२)।

केसि पु [केशिन] देखो केसव (पत्रम ७५, २०)।

केसिअ वि [केशिक] केशवाला, बाल-युक्त। स्त्री °आ (सूत्र १, ४, २)।

केसी स्त्री [केशी] सातवें वासुदेव की माता (पत्रम २०, १८४)।

°केसी स्त्री [°केशी] केशवाली स्त्री, 'विद्वएण-केसी' (उवा)।

केसुअ देखो किंसुअ (हे १, २६, ८६)।

केह (अप) वि [कीहश] कैसा, किस तरह का ? (भवि, पड, कुमा)।

केहिं (अप) अ लिए, वान्ते (हे ४, ४२५)।

कैअव न [कैनव] कपट दम्भ (हे १, १, गा १२४)।

कोअ देखो कोऊ (दे २, ४५ टी)।

कोअ देखो कोव (गउड)।

कोअड देखो कोडड (पात्र)।

कोआम अक [वि + कस्] विकमना, खिलना। कोआसइ (हे ४, १६५)।

कोआसिय वि [विकसित] विकसित, प्रफुल्ल, खिलना हुआ (कुमा, ज २)।

कोडल पु [कोडिल] १ कोयन, पिक (परह १, ४, उप २३, स्वप्न ६१)। २ छन्द का एक भेद (पिंग)। °च्छय पु [°च्छद] वनस्पति विशेष, तलकरएक (परह १७—पत्र ५०७)।

कोडला स्त्री [कोडिला] स्त्री कोयन, पिकी, 'कोडला पचम मर' (प्रणु, पात्र)।

कोडला स्त्री [के] कोयन, पाउ के आार (दे २, १६)।

कोउआ स्त्री [दे] गोइठा की अग्नि, करीषाग्नि (दे २, ४८, पात्र)।

कोउग } न [कौतुक] १ कुतूहल, अपूर्व वस्तु कोउय } देखने का अभिलाष (सुर २, २२६)।

२ आरचय, विस्मय (वव १)। ३ उत्सव (राय)। ४ उत्सुकता, उत्कण्ठा (पचव १)।

५ दृष्टि-बोधादि से रक्षा के लिए किया जाता काजल का तिलक, रक्षा-बन्धनादि प्रयोग (राय, औप, विपा १, १, परह १, २, धर्म ३)।

६ सौभाग्य आदि के लिए किया जाता स्नपन विस्मापन, धूर, होम बगैरह कर्म (वव १, गाया १, १४)।

कोउणह वि [कटुण्ण] थोडा गरम (धर्मवि ११३)।

कोउहल } देखो कुऊहल (हे १, ११७, कोउहल } १७१, २, ६६, कुमा, प्राप्र)।

कोउहल्लि वि [कुतूहल्लि] कुतूहली, कौतुकी, कुतूहल-प्रिय (कुमा)।

कोऊहल } देखो कुऊहल (कुमा, पि ६१)। कोऊहल्ल }

कोङ्कण पु [कोङ्कण] देश-विशेष (स ४१२)।

कोङ्कणग पु [कोङ्कणक] १ अनार्य देश विशेष (इक)। २ वि उस देश में रहनेवाला (परह १, १, विसे १४१२)।

कोच पु [कौच] १ इस नाम का एक अनार्य देश (परह १, १)। २ पक्षि-विशेष (ठा ७)।

३ द्वीप विशेष (ती ४५)। ४ इस नाम का एक असुर (कुमा)। ५ वि कौच देश का निवासी (परह १, १)। °रिपु पु [°रिपु] कार्तिकेय, स्कन्द (कुमा)। °वर पु [°वर] इस नाम का एक द्वीप (अणु-टी) °वीरग पु [°वीरक] एक प्रकार का जहाज (वृह १)। देखो कुच।

कोचिगा स्त्री [कुञ्चिका] ताली, कुजी (उप १०७)।

कोचिय वि [कुञ्चित] आकुञ्चिन, संकुचित (परह १, ४)।

कोटलय न [दे] १ ज्योतिष-सम्बन्धी सूचना। २ शत्रुनादि निमित्त-सम्बन्धी सूचना, 'पलजणे कोटलयम्' (ओष २२१ भा)।

कोट देखो कुठ (हे १, ११६ पि)।

कोड देखो कुड (हे १, २०२)।

खिखिणी स्त्री [किङ्किणी] ऊपर देखो (ठा १०, णाया १, १, अजि २७)।

खिखिणी स्त्री [दे] श्रुगाली, स्त्री-सियार (दे २, ७४)।

खिंग पुं [खिङ्ग] रंडीबाज, व्यभिचारी, 'अणेगखिगजणलब्बासियरसणे' (रभा)।

खिस सक [खिस्] निन्दा करना, गर्हा करना, चुच्छकारना। खिसए (आचा)। कर्म खिसिज्जइ (बुह ?)। कवकू खिसि-ज्जत (उप ५८८)। कू खिसणिज्ज (णाया १, ३)।

खिसण न [खिसन] अनर्थावाद, निन्दा, गर्हा (औप)।

खिसणा स्त्री [खिसना] निन्दा, गर्हा (औप, उप १३४ टी)।

खिमा स्त्री [खिसा] ऊपर देखो (ओघ ६०, इ ४२)।

खिसिय वि [खिसित] निन्दित गहित (ठा ६)।

खिखिखड पु [दे] कुकलास, गिरगिट, सरट (दे २, ७४)।

खिखिखयत वि [खिखीयमान] 'खि-खि' आवाज करता (परह १, ३—पत्र ४६)।

खिखिखरी स्त्री [दे] डोम बगैरह का स्पर्श रोकने की लकड़ी (दे २, ७३)।

खिख पुन [दे] खीचडी, कुसरा (दे १, १३४)।

खिज्ज अक [खिज्] १ खेद करना, अफनोस करना। २ उद्विग्न होना, थक जाना। खिज्जइ, खिज्जए (स ३४, गउड, पि ४५७)। कू खिज्जियञ्च (महा, गा ५१३)।

खिज्जणिथा स्त्री [खेदनिथा] खेद-क्रिया अफनोस, मन का उद्वेग (णाया १, १६—पत्र २०२)।

खिज्जिअ न [दे] उपासम्भ, उलाहना (दे २, ७४)।

खिज्जिअ वि [खिज्] १ खेद प्राप्त। २ न खेद (स ५५५)। ३ प्रणय-जन्य रोप (णाया १, ६—पत्र १६५)।

खिज्जिअय न [खेदितक] छन्द-विशेष (अजि ७)।

खिर वि [खेदित्] खेद करनेवाला, खिन गदतवाला (कुमा ७, ६०)।

खिड्डु न [खेळ] खेल, क्रीडा, मजाक, 'खिड्डेण मए भणिय एय' (सुपा ३०२), 'बालत्तए खिड्डुपरो गमेइ' (सत्त ६८)। °कर वि [°कर] खेल करनेवाला, मजाक करनेवाला (सुपा ७८)।

खिण्ण वि [खिण्ण] १ खिन्न, खेद प्राप्त। २ श्रान्त, थका हुआ (दे १, १२४, गा २२६)।

खिण्ण देखो खीण (प्राप)।

खित्त वि [क्षिप्त] १ फेंका हुआ (सुर ३, १०२, सुपा ३५७)। २ प्रेरित (दे १, ६३)।

°इत्त, °चित्त वि [°चित्त] भ्रान्त-चित्त, विक्षिप्त-मनस्क, पागल (ठा ५, २, ओघ ४६७, ठा ५, १)। °मण वि [मनस्] चित्त-भ्रमवाला (महा)।

खित्त देखो खेत्त (अणु, प्रासू, पडि)। °देवया स्त्री [°देवता] क्षेत्र का अधिष्ठायक देव (आ ४७)। °वाल पु [पाल] देव-विशेष, क्षेत्र-रक्षक देव (सुपा १५२)।

खित्तज पु [क्षेत्रज] गोद लिया हुआ लडका, 'खित्तज सुएणावि कुल वट्टउ (कुप्र २०८)। खित्तय न [क्षिप्रक] छन्द विशेष (अजि २४, २५)।

खित्तय न [दे] १ अनर्थ, नुकसान। २ वि, दोष, प्रचलित (दे २, ७६)।

खित्तअ वि [क्षेत्रिक] १ क्षेत्र-सम्बन्धी। २ पु व्याधि-विशेष, 'तात्तुपुड गत्ताण जह बहुवाहीण खित्तियो वाही' (आ १२)।

खिन्न देखो खिण्ण = खिन्न (पाम्, महा)।

खिप्प अक [कृप्] १ समर्थ होना। २ दुर्बल होना। खिप्पइ (संसि ३५)।

खिप्प वि [क्षिप्र] शीघ्र, त्वरा युक्त। °गइ वि [°गति] १ शीघ्र गतिवाला। २ पु अमितगति इन्द्र का एक लोकोपाल (ठा ४, १)।

खिप्प अ [क्षिप्रम्] तुरन्त, शीघ्र, जल्दी (प्रासू ३७, पडि)।

खिप्पत देखो खिव।

खिप्पामेव अ [क्षिप्रमेव] शीघ्र ही, तुरन्त ही (ज ३, महा)।

खिमा स्त्री [क्षमा] धृष्टिबी (चड)।

खिर अक [क्षर] १ गिरना, गिर पडना। २ टपकना, फरना। खिरइ (हि ४, १७३)। वकू, खिरत (पठम १८, ३२)।

खिरिय वि [क्षरित] १ टपका हुआ। २ गिरा हुआ (पाम्)।

खिल न [खिल] अकूट-भूमि, ऊसर जमीन (परह १, २—पत्र २६)।

खिलीकरण न [खिलीकरण] खाली करना, शून्य करना, 'जुवणणचोरखिलीकरणक्वाइयो वेसवाडयो' (मै ८)।

खिल्ल सक [कीलय्] रोकना, रूकावट डालना, 'भणइ इमाण वन्धव। गणए खिल्लेमि कड्डिउ रेह' (सुपा १३७)।

खिल्ल अक [खेळ] क्रीडा करना, खेल करना, तमाशा करना। वकू, पिण्डित (सुपा ३६६)। खिल्ल पुं [दे] फोडा, फुनसी, गुजरती में 'खील' (तदु ३८)।

खिल्लण न [खेलन] खिलोना, खेलनक (सुर १५, २०८)।

खिल्लहड १ पु [दे खिल्लहड] कन्द विशेष (आ २०, धर्म २)।

खिल्लुहडा स्त्री [दे] कन्द विशेष (सवोध ४४)।

खिव सक [क्षिप्] १ फेंकना। २ प्रेरना। ३ डालना। खिवइ, खिवेइ (महा)। वट्ट खिवेमाण (णाया १, २)। कवकू पिप्पत (काल)। सकू, खिविय (कम्म ४, ७४)।

कू खिवियञ्च (सुपा १५०)।

खिवण न [क्षेपण] १ फेंकना, क्षेपण (मै १२, ३६)। २ प्रेरण, इत्तर-उपर बनाना (मै ५, ३)।

खिविय वि [क्षिप्] १ क्षिप्त, फेंका हुआ। २ प्रेरित (सुपा २)।

खिञ्च देखो खिर। संकू 'मह गिञ्जिऊग सच्च, पोए ते पत्तिया रयणभूमि' (पम्म १० टी)।

खिस अक [दे] मरकना, निमरना। वट्ट 'मह नियगणे गच्छतस्स गिम्भिऊण गहणा-हितो पडिय' (सुपा ५२७, ५२८)।

खीण देखो खिण्ण = खिन्न, 'कोरेण मुरल-खीणी' (पठम ३२, ३)।

खीण वि [क्षिण] १ क्षय-श्रान्त, नष्ट, विधि न (मम्म ६०, हे २, ३)। २ दुर्बल, हल (मग २, ५)। °टुह वि [°हुम्] दुर्ग-रहित (नम १५३)। °मोह वि [°मोह] १ जिज्ञया मोह नष्ट हो गया हो गट (ठा ३,

नेट्ट पु [कोट्ट] ? धारणा, अवधारित अर्थ का कालान्तर में स्मरण-योग्य अवस्थान (एदि १७६)। २ सुगन्धी द्रव्य-विशेष (राय ३४)।

नेट्टु देवो कुट्ट = कोष्ठ (राया १, १, ठा ३, १, पात्र)। ३ आश्रय-विशेष, कोट्टुय प्रावाम-निगेष (शोध २००, वव १)। ४ अणवरक, कोठरी (वम ५, १, उप ५८६)। ५ चैत्य विशेष (राया २, १)। ६ गार न [गार] घान्य भरने का घर (श्रीफ. कप्प)। ७ भाएडागार, भंडार (राया १, १)।

नेट्टार पुन [कोट्टागार] भाएडागार, भंडार, (पवम २, ३)।

नेट्टि वि [कुट्टिन्] कुष्ठ रोगी (आचा)। नेट्टिया स्त्री [कोट्टिका] छोटा कोष्ठ, लघु कृत्तन (उमा)।

नेट्टु पु [कोट्टु] शृगाल, मियार (पड)। नेट्ट देवो कोट्ट (स २५६)। कोट्टि देवो कोट्टिय (कप्प)। कोट्टन [ट] कार्य, काम काज (दे २, २)। कोट्ट [ट] देवो कोट्टिअ (पात्र)। कोट्टर न [कोट्टर] गह्वर, वृक्ष का पोल भाग, मिर (गा ५६२)।

कोट्टन पु [कोट्टर] पक्षि-निगेष (राज)।

नेट्टाकोट्टि श्री [कोट्टाकोट्टि] सख्या-विशेष, करोट्टो तो करोट्ट मे जुनने पर जो सख्या नय मे वट (वम १०५, कप्प, उम)।

नेट्टाल पु [कोट्टाल] ? गोत्र-विशेष का प्रस्ता पुत्र। २ न. गोत्र-विशेष (कप्प)।

नेट्टि गो [कोट्टि] ? धनुष का अग्र भाग (गप ११३)। २ नेद, प्रकार (पिट ३६५)।

नेट्टि श्री [कोट्टि] ? सत्या निगेष, करोट्ट, १०००००० (राया १, ८, मुर १, ६७, १६०)। २ अग्र भाग, अणो, नोक (नि १० २६, पात्र)। ३ अंग, विभाग, भाग, 'विभाग' का नाम, 'विभाग' का नाम, 'विभाग' का नाम (पत्र २६ टा ६)। ४ कोट्टि देवो नेट्टा-कोट्ट (उमा २६६)। ५ वट्ट वि [वट्ट] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)। ६ भूमि श्री [भूमि] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)। ७ भूमि श्री [भूमि] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)। ८ भूमि श्री [भूमि] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)।

नेट्टि देवो नेट्टा-कोट्ट (उमा २६६)। ५ वट्ट वि [वट्ट] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)। ६ भूमि श्री [भूमि] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)। ७ भूमि श्री [भूमि] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)। ८ भूमि श्री [भूमि] वट्ट वट्ट-वट्टा (पत्र ३)।

६६)। १ सो अ [शस्] करोडो, अनेक करोड (सुपा ४२०)। देखो कोडी।

कोडिअ न [दे] ? छोटा मिट्टी का पात्र, लघु सराव, सकोरा (दे २, ४७)। १ पु पिशुन, दुर्जन, चुगलखोर (पड)।

कोडिअ पु [कोट्टिक] ? एक जैन मुनि (कप्प)। २ एक जैन मुनि-गण (कप्प, ठा ६)।

कोडिअ वि [कोट्टित] सकोचित (धर्मस ३८८)।

कोडिण्ण न [कोडिण्य] ? इस नाम का कोडिण्ण एक नगर (उप ६४८ टी)। २

वाशिष्ठ गोत्र को शाखा रूप एक गोत्र (कप्प)। ३ पु कौडिण्य गोत्र का प्रवर्तक पुरुष। ४ वि कौडिण्य-गोत्रीय (ठा ७—पत्र ३६०, कप्प)। ५ पु एक मुनि, जो शिवभूति का शिष्य था (विसे २५५२)। ६ महागिरि-सूरि का शिष्य, एक जैन मुनि (कप्प)। ७ गोतम स्वामी के पास दीक्षा लेनेवाले पांच सौ तापसों का कुल (उप १४२ टी)।

कोडिण्णा स्त्री [कोडिण्य] कोडिण्य-गोत्रीय स्त्री (कप्प)।

कोडिल्ल पु [दे] पिशुन दुर्जन, चुगलखोर (दे २, ४०, पड)।

कोडिल्ल देवो कोट्टिल्ल (राज)।

कोडिल्ल पु [कोट्टिल्य] इस नाम का एक ऋषि, चाणक्य मुनि (वव १, अणु)।

कोडिल्लय न [कोट्टिल्यक] चाणक्य-प्रणीत नीति-शास्त्र (अणु)।

कोडिसाहिय न [कोट्टिसहित] प्रत्याख्यान विशेष, पहले दिन उपवास करके दूसरे दिन भोजन उपवास की ली जाती प्रतिज्ञा (पव ५)।

कोडी देवो कोडि (उम, ठा ३, १, जो ३७)। १ करण न [करण] विभाग, विभजन (पिट ३०७)। २ गार न [गार] इस नाम का मोरठ देश का एक नगर (ती ५६)। ३ मातमा स्त्री [मातसा] गांधार नाम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३)। ४ वरिन न [वट्ट] नट देश की राजधानी, नट निगेष (रा, पव १७८)। ५ वरिमिया स्त्री [वट्टिका] जैन मुनि-गण की एक

शाखा (कप्प)। १ सर पुं [श्वर] करोड पति, कोटीश (सुपा ३)।

कोडीण न [कोडीन] ? इस नाम का एक गोत्र, जो कौत्स गोत्र की एक शाखा रूप है। २ वि इस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

कोडुंब न [दे] कार्य, काज (दे २, २)। कोडुंबि देवो कुडुंबि (ठा ३, १—पत्र १२५)।

कोडुंबिय पु [कोट्टुम्बिक] ? कुट्टुम्ब का स्वामी, परिवार का स्वामी, परिवार का मुखिया (भग)। २ ग्राम-प्रधान, गाँव का आदमी (पएह १, ५—पत्र ६४)। ३ वि, कुट्टुम्ब में उत्पन्न, कुट्टुम्ब से सम्बन्ध रखने-वाला, कुट्टुम्ब-सम्बन्धी (महा, जीव ३)।

कोडूसग पु [कोट्टुपक] अन्न-विशेष, कोदो की एक जाति (राज)।

कोडु [दे] देवो कुडु (दे २, ३३, स ६४१, ६४२, हे ४, ४२२, राया १, १६—पत्र २२४, उप ८६२, भवि)।

कोडुम देवो कोट्टुम (कुमा)।

कोडुमिअ न [रत] रति-क्रीडा-विशेष (कुमा)। कोडुयि वि [दे] कुतुहली, कौतुकी, विनोद-शील, उत्कण्ठित (उप ७६८ टी)।

कोड्ड पु [कुट्टि] रोग-विशेष, कुष्ठ-रोग कोट्ट } पि ६६, राया १, १३, आ २०)। कोट्टि वि [कुट्टिन्] कुष्ठ-रोग में ग्रस्त, कुष्ठ-रोगी (आचा)।

कोट्टिकु वि [कुट्टिकु] कुष्ठ-रोगी, कुष्ठ-कोट्टिय } ग्रस्त (पएह २, ५ विपा १, ७)। कोण वि [दे] ? काला, श्याम वर्णवाला (दे २, ४५)। २ पु लकुट, लकड़ी, यष्टि (दे २, ४५, निव्व १, पात्र)। ३ वीणा वगैरह वजाने की लकड़ी, वीणा-वादन-द्वार (जीव ३)।

कोण पुन [कोण] कोन, अन्न, घर का कोणग } एक भाग (गडड, दे २, ४५, रंभा)। कोणव पु [कोणव] राक्षस, पिशाच (पात्र)। कोणायल पु [कोणायल] भगवान् शान्ति-नाथ के प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८)।

कोणालग पु [कोनालक] जलचर पक्षि विशेष (पएह १, १)।

खुडतदित्तमोत्तिया' (पत्रम ५३, ११२, स ४४८)। सख खुडिऊण (स ११३)।
 खुडक देखो खुडुक = (दे)। खुडकए (धर्मवि ७१)।
 खुडकिकिअ [दे] देखो खुडकिकिअ (गा २२६)।
 खुडिअ वि [खण्डित] बुद्धि खण्डित, विच्छिन्न (हे १, ५३, षड्)।
 खुडुक सक [अप + क्रम्य] हटाना, हूर करना। खुडुकइ (प्राक ७०)।
 खुडुक अक [दे] १ नीचे उतरना। २ स्वलिप्त होना। ३ शल्य की तरह चुभना। ४ गुस्सा से मौन रहना। खुडुकइ (हे ४, ३६५)। वक्ख खुडुकत (कुमा)।
 खुडुकिकिअ वि [दे] १ शल्य की तरह चुभा हुआ, खटका हुआ (उप ३५५)। २ रोष-मूक, गुस्सा से मौन धारण करनेवाला। क्ली. आ (गा २२६ अ)।
 खुडु } वि [दे] क्षुद्र क्षुद्रक १ लघु, खुडुग } छोटा (दे २, ७४, कप्प, दस ३, आचा २, २, ३, उत १)। २ नीच, अथम दुष्ट (पुष्क ४४१)। ३ पु छोटा साधु, लघु शिष्य (सुअ १, ३, २)। ४ पुन अणुलीय-विशेष, एक प्रकार की अणुली (श्रीप, उप २०८)।
 खुडुमड्डा अ [दे] १ वह, अत्यन्त। २ फिर-फिर (निच २०)।
 खुडुय देखो खुडु (हे २, १७४, षड्, कप्प, सम ३५, णामा १, १)।
 खुडुग } देखो खुडुग (श्रीप, पराण ३६, खुडुय } णामा १, ७, कप्प)। १ गियठ न [नैर्ग्रन्थ] उत्तराध्ययन सूत्र का छठवाँ अध्ययन (उत ६)।
 खुडुआ न [दे] सुरत, मैथुन, सभोग (दे २, ७५)।
 खुडुआ क्ली [दे] क्षुद्रिका १ छोटी, लक्ष्मी (ठा २, ३, आचा २, २, ३)। २ डाबर, नही खुवा हुआ छोटा तलाव (ज १, परह २, ५)।
 खुणुक्खुडिआ क्ली [दे] प्राण, नाक, नासिका (दे २, ७६)।
 खुणु वि [क्षुण्ण] १ मदित (गा ४४५, निच १)। २ वर्णित (दे २, ४५)। ३ मग्न,

लीन, 'अजगरमरपहखुणुणा साहू सरण सुकय-पुराणा' (च ३८, सभा)।
 खुणुण वि [दे] परिवेष्टित (दे २, ७५)।
 खुत्त वि [दे] निमग्न, हुवा हुआ (दे २, ७४, णामा १, १, गा २७६, ३२४, सभा, गडड)।
 खुत्तो अ [कृत्वस्] वार, दफा (उव, सुर १४, ६१)।
 खुद वि [क्षुद्र] तुच्छ, नीच, दुष्ट, अथम (परह १, १, ठा ६)।
 खुद न [चौद्रथ] क्षुद्रता, तुच्छता, नीचता (उप ६१५)।
 खुदिमा क्ली [क्षुद्रिमा] गान्धार ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३)।
 खुद्वि वि [क्षुद्वि] क्षोभ-प्राप्त, घबडाया हुआ (सुपा ३२५)।
 खुधा क्ली [क्षुध] भूख (धर्मसं १०६२)।
 खुधिय वि [क्षुधित] क्षुधातुर, भूखा (सुअ १, ३, १)।
 खुन्न देखो खुणुण = क्षुरण (पि ५६८)।
 खुन्न देखो खुणुण = (दे) (पाअ)।
 खुप्प सक [प्लुष्] जलाना। खुप्पइ (प्राक ६५)।
 खुप्प अक [मस्ज्] ह्वना, निमग्न होना। खुप्पइ (हे ४, १०१)। वक्ख खुप्पत (गडड, कुमा, शीघ २३, से १३, ६७)। हेक्ख खुप्पित (तडु)।
 खुप्पवासा क्ली [क्षुत्तिपासा] भूख और प्यास (पि ३१८)।
 खुव्व अक [क्षुव्व] १ क्षोभ पाना, क्षुभित होना। २ नीचे ह्वना। वक्ख खुव्वमत (ठा ७—पत्र ३८३)।
 खुव्वभण न [क्षोभण] क्षोभ, घबडाहट (राज)।
 खुव्व अक [क्षुव्व] डरना, घबडाना। खुव्वइ (रण १८)। क्खु खुव्वियव्व (परह २, ३)।
 खुव्विय वि [क्षुव्वित] १ क्षोभ-युक्त, घबडाया हुआ (परह १, ३)। २ न क्षोभ, घबडाहट (श्रीघ)। ३ कलह, झगडा (बृह ३)।
 खुम्म अक [क्षुध्] भूख लगना। खुम्मइ (प्राक ६)।
 खुम्मिय वि [दे] नमित, नमाया हुआ (णामा १, १—पत्र ४७)।

खुय न [क्षुत] छोक (चैद्य ४३३)।
 खुर पु [खुर] जानवर के पाँव का गठ (सुर १, २४८, गडड, प्रासू १७१)।
 खुर पु [खुर] छूरा, उत्तरा (णामा १, ८, कुमा, प्रमौ १०७)। १ पत्त न [पण] अस्तुरा या उत्तरा, छूरा (विपा १, ६)।
 खुरप्प पुन [खुरप्प] एक तरह का बहान (सिदि ३८३)।
 खुरप्प पु [खुरप्प] १ घास काटने का अत्र विशेष, खुरपा (सम १३४)। २ शर विशेष, एक प्रकार का बाण (वेणी १८७)।
 खुरसाण पु [खुरसान] १ देश-विदेह (पिग)। २ खुरसान देश का राजा (पिग)।
 खुरइखुडी क्ली [दे] प्रणय-कोप (पड्)।
 खुरासाण देखो खुरसाण (पिग)।
 खुरि वि [खुरि] खुरावाता जानवर (आव ३)।
 खुरु पुं [खुरु] अग्रहण-विशेष, आधुय विशेष (सुर १३, १६३)।
 खुरुइक्खुडी क्ली [दे] प्रणय-कोप (दे २, ७६)।
 खुरुप्प देखो खुरप्प (पत्रम ५६, १६, ष १८४)।
 खुल क [दे] बट गाँव जहाँ साधुओं को निना कम मिलती हो या भिषा में घट प्रादि न मिलता हो (वव १)।
 खुल देखो खुम्म। खुलइ (प्राक ६६)।
 खुलिअ देखो खुडिअ (पिग)।
 खुलुइ पु [दे] गुल्फ, पैर की गाठ, कंगली (दे २, ७५, पाअ)।
 खुल्ल न [दे] कुटी, कुटीर (दे २, ७५)।
 खुल्ल } वि [क्षुल्ल, क्] १ छोटा, लघु खुल्ल्या } क्षुद्र (परह १)। २ पु, द्वैतिय जीव-विशेष (जीव १)।
 खुल्ल देखो खुडुग (कुप्र २७६)।
 खुल्लण (अप) देखो खुडु (पिग)।
 खुल्लय वि [क्षुल्ल] १ लघु, सुद, क्षा (भवि)। २ अपदक-विशेष, एक प्रकार की कौड़ी (णामा १, १८—पत्र २३५)।
 खुल्लसय पु [दे] रत्तानी, जहान का रत्नचारी-विशेष (सिदि ३८५)।
 खुल्लिरी छी [दे] सनेव (दे २, ७०)।

विशेष, जहाँ श्रीऋषभदेव भगवान् का मन्दिर है, यह नगर दक्षिण में है (ती ४५) । °पाल पु [°पाल] देव विशेष, घरण्ण्ड का लोकपाल (ठा ३, १—पत्र १०७) । °सुणय, °सुणह पुत्री [°सुनक] १ बड़ा शूकर, सूअर की एक जाति, जंगली बराह (आचा २, १, ५) । २ शिकारी कुत्ता (परए ११) । स्त्री °गिया (परए ११) । °वास पु न [°वास] काष्ठ, लकड़ी (मम ३६) ।

कोल वि [कोल] १ शक्ति का उपासक, तान्त्रिक मत का अनुयायी । २ तान्त्रिक मत से सबक रखनेवाला, 'कोलो घम्मो कस्स एो माः रम्मो' (कप्प) । ३ न बदर-फल-सक्की (भग ६, १०) । °चुणन न [°चूर्ण] वेर का चूर्ण, वेर का सत्तू (दम ५, १) । °ट्टिय न [°स्थिर] वेर की गुठिया या गुठनी (भग ६, १०) ।

कोलपु पु [दे] पिठर, स्याली (दे २, ४७, पाप) । २ गृह, घर (दे २, ४७) ।

कोलय पु [कोलम्ब] वृक्ष की शाखा का नामा हुआ अन्न भाग (अनु ५) ।

कोलगिणी स्त्री [कोली, कोलकी] कोल-जानीय स्त्री (आचू ४) ।

कोलयरिय वि [कोलगृहिक] कुलगृह-मन्त्री, पितृगृह-सक्की, पितृगृह से सन्वय रखनेवाला (उवा) ।

कोलजा स्त्री [दे] धान्य रखने का एक तरह का गर्त (आचा २, १, ७) ।

कोलर देना कोटर (भा ५६३ अ) ।

कोलय १ [कोलय] उमेतिप-शास्त्र में प्रसिद्ध एक कण (विमे ३३८८) ।

कोलय २ [कोलाल] १ कुम्भकार सक्की । २ न मिट्टी का पात्र (उवा) ।

कोलयिय पु [कोलयिक] मिट्टी का पात्र बनानेवाला (श्र २) ।

कोलाह पु [कोलाह] मार की एक जाति (पर १) ।

कोलाह पु [दे] कर्ण की आमान, पत्नी का नाम (२, ५०) ।

कोलाह पु [कोलाह] मुमुन, गोरान, मार, रण, बड़ा दू जनेराना पना प्रार

का अस्फुट शब्द (दे २, ५०, हेका १०५, उत ६) ।

कोलाहलिय वि [कोलाहलिक] कोलाहल-वाला, शोरगुलवाला (पउम ११७, १६) ।

कोलिअ पु [दे] एक अवम मनुष्य जाति (सुख २, १५) ।

कोलिअ पु [दे] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा, कपडा बुननेवाला (दे २, ६५, एदि, पव २, उप पृ २१०) । २ जाल का कीडा, मकडा

(दे २, २५, पाअ, आ २०, आव ४, बृह १) ।

कोलित्त न [दे] जलुक, लूका (दे २, ४६) ।

कोलिन्न न [कोलीन्य] कुलीनता, खानदानी (धर्मवि १४६) ।

कोलीकय वि [कोडीकृत] स्वीकृत, अंगीकृत (गउड) ।

कोलीण न [कोलीन] १ किंवदन्ती, लोक वार्ता, जन-श्रुति (मा ३७) । २ वि. वश-परपरागत, कुलक्रम से आयात । ३ उत्तम कुल में उत्पन्न । ४ तान्त्रिक मत का अनुयायी (नाट—महावी १३३) ।

कोलीर न [दे] लाल रंग का एक पदार्थ, कुसुविन्द, 'कोलीररत्तणयण्ण' (दे २, ४६) ।

कोलुणन न [कारुण्य] दया, अनुकम्पा, करुणा (निचू ११) । °पडिया, °वडिया स्त्री [°प्रतिज्ञा] अनुकम्पा की प्रतिज्ञा (निचू ११) ।

कोलेज्ज पु [दे] नीचे गोल और ऊपर खाई के आकार का धान्य आदि भरने का कोठा (आचा २, १, ७, १) ।

कोलेय पु [कोलेयक] श्वान, कुत्ता (सम्मत् १६०, धर्मवि ५२) ।

कोल पु न [दे] कोयला, जली हुई लकड़ी का टुकडा (निचू १) ।

कोलडर न [कोलडरि] नगर-विशेष (पिड ४७७) ।

कोलपाग न [कोलपाक] दक्षिण देश का एक नगर, जहाँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर है (ती ४५) ।

कोलर पु [दे] पिठर, स्याली, थाली, थरिया (दे २, ४७) ।

कोला देना कुट्टा (कुमा) ।

कोलाग देना कुलाग (अव) ।

कोलापुर न [कोलापुर] दक्षिण देश का एक नगर, महालक्ष्मी का स्थान (ती ३४) ।

कोलासुर पु [कोलासुर] इस नाम का एक दैत्य (ती ३४) ।

कोल्लुग [दे] देखो कोल्लुअ (वव १, बृह १) ।

कोल्लाहल न [दे] फल-विशेष, बिम्बी-फल (दे २, ३६) ।

कोल्लुअ पु [दे] १ शृगाल, सियार (दे २, ६५, पाअ, पउम ७, १७, १०५, ४२) ।

२ कोल्लू, चरखी, ऊल से रस निकालने का कल (दे २, ६५, महा) ।

कोव सक [कोपय] १ दूषित करना । २ कुपित करना । कोवेइ (सूअनि १२५), कोवइज्ज (कुप्र ६४) ।

कोव पुं [कोप] क्रोध, गुस्सा (विपा १, ६, प्रासू १७५) ।

कोवण वि [कोपन] क्रोधी, क्रोध-युक्त (पाअ, सुपा ३८५, सम ३४७, स्वप्न ८२) ।

कोवाय पु [कोपेक] अनार्य देश-विशेष (पव २७४) ।

कोवासिअ देखो कोआसिय (पाअ) ।

कोवि वि [कोपिन्] क्रोधी, क्रोध-युक्त (सुपा २८१, आ २०) ।

कोविअ वि [कोविद्] निपुण, विद्वान्, अभिज्ञ (आचा, सुपा १३०, ३६२) ।

कोविअ वि [कोपित] १ क्रुद्ध किया हुआ । २ दूषित, दोष-युक्त किया हुआ, 'वइरो किर दाहो वायणति नवि कोविय वयण' (उव) ।

कोविआ स्त्री [दे] शृगाली, सियारिन (दे २, ४६) ।

कोविआर पु [कोविदार] वृक्ष-विशेष (विक्र ३३) ।

कोविणी स्त्री [कोपिनी] कोप युक्त स्त्री (आ १२) ।

कोशण (मा) वि [कटुण्ण] थोडा गरम (प्राह १०२) ।

कोस पुं [दे] १ कुसुम्भ रंग से रंगा हुआ रक्त वज्र । २ समुद्र, जलवि, सागर (दे २, ६५) ।

कोस पु [कोश] कोस, मार्ग की लम्बाई का परिमाण, दो मील (कप्प, जी ३२) ।

खेर पु [दे] एक म्लेच्छ जाति (मृच्छ १५२) ।
 खेरि स्त्री [दे] १ परिशुद्ध, नाश, 'धराणखेरि
 वा' (बृह २) । २ खेद, उद्वेग । ३ उत्कटा,
 उत्सुकता (भवि) ।
 खेल अक [खेल] खेलना, क्रीडा करना,
 तमाशा करना । खेलइ (कम्प), खेलउ (गा
 १०६) । वक्र खेलत (पि २०६) ।
 खेल पु [दे] जहाज का कर्मचारी-विशेष
 (सिरि ३८५) ।
 खेल वि [खेल] खेल करनेवाला, नाटक का
 पात्र (धर्मवि ६) स्त्री. -लिया (धर्मवि ६) ।
 खेल पुं [श्लेषमन्] श्लेषमा कफ, निष्ठीवन,
 शूल (सम १०, औप, कम्प, पडि) ।
 खेलण } न [खेलन, क] १ क्रीडा,
 खेलणय } खेल । २ खिलौना (आक, स
 १२७) ।
 खेलोसहि स्त्री [श्लेषमौपधि] १ लब्धि-
 विशेष, जिससे श्लेष औपधि का काम देने
 लगे (परह २, १, सति ३) । २ वि ऐसी
 लब्धिवाला (आवम, पव २७०) ।
 खेल देखो खेल = खेल । खेलइ (पि २०६) ।
 वक्र खेलमाण (स ४४) । प्रयो सक
 खेलावेऊण (पि २०६) ।
 खेल देखो खेल = श्लेषमन (राज) ।
 खेलण देखो खेलण (स २६५) ।
 खेलावण } न [खेलनक] १ खेल कराना,
 खेलावणय } क्रीडा कराना । २ न खिलौना
 (उप १४२ टी) । ३ धाई स्त्री [धात्री] खेल
 करानेवाली दाई (राज) ।
 खेलिअ न [दे] हसित, हँसी, ठट्टा (दे २,
 ७६) ।
 खेललुड देखो खललुड (राज) ।
 खेल पु [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना (उप ७२८
 टी) । २ न्यास, स्थापना (विसे ६१२) । ३
 संख्या-विशेष (कम्म ४, ८१, ८४) ।
 खेल पुं [क्षेप] विलम्ब, देरी (स ७७५) ।
 खेल पु [खेद] उद्वेग, खेद, क्लेश, 'न हु कोइ
 गुरु खेव वच्चइ सीसेसु सत्तिसुमहेसु (?)'
 (पजम ६७, २३) ।
 खेलण न [क्षेपण] प्रेरण (णया १, २) ।
 खेलय वि [क्षेपक] फेंकनेवाला (गा २४२) ।

खेविय वि [खेदित] खिन्न किया हुआ
 (भवि) ।
 खेह पुन [दे] घूली, रज, 'वगिरतुरगखर-
 खुक्खयवेहाडन्नरिक्खपह' (सुर ११, १७१) ।
 खोअ पु [क्षोद] १ इक्षु, ऊख । २ द्वीप-
 विशेष, इक्षुवर द्वीप । ३ ममुद्र-विशेष,
 इक्षुरस समुद्र (अणु ६०) ।
 खोइय वि [दे] विच्छेदित, 'सन्ने सघी
 खोइया' (सुज २, १५) ।
 खोउठय पु [क्षोदोदक] समुद्र-विशेष (सुस
 १, ६, २०) ।
 खोओद देखो खोदोद (सुज १६) ।
 खोंटग } पु [दे] खूँटी, खूँटा (उप २७८,
 खोंटय } स २६३) ।
 खोक्ख अक [खोख] वानर का बोलना,
 वन्दर का आवाज करना । खोक्खइ (गा
 १७१ अ) ।
 खोक्खा } स्त्री [खोखा] वानर की आवाज
 खोखा } (गा ५३२) ।
 खोखुठम अक [चोक्षुभ्य] अत्यन्त भयभीत
 होना, विशेष व्याकुल होना । वक्र खोखु-
 ठममाण (औप परह १, ३) ।
 खोज्ज पुं न [दे] मार्ग-निह (संक्षि ४७) ।
 खोट्ट सक [दे] खटखटाना, ठकठकाना,
 ठोकना । कवकू खोट्टिज्जत (ओष ५६७
 टी) । सकू खोट्टेउ (ओष ५६७ टी) ।
 खोट्टिय [दे] वनावटी लकड़ी (नदीटिप्प पत्र
 १४६) ।
 खोट्टी स्त्री [दे] दासी, चाकरानी (दे २, ७७) ।
 खोड पु [स्फोट] फोडा (प्राक १८) ।
 खोड पु [दे] १ सीमा-निर्धारक काष्ठ, खूँटा ।
 २ वि धार्मिक, धर्मिष्ठ (दे २, ८०) । ३
 खज, लगडा (दे २, ८०, पिग) । ४
 शृगाल, नियार (मृच्छ १८३) । ५ प्रदेश,
 जगह, 'सिगक्खोडे कल्हो' (ओष ७६ भा) ।
 ६ प्रस्फोटन, प्रमाजंन (ओष २६५) । ७ न
 राजकुल में देने योग्य सुवर्ण वगैरह द्रव्य
 (वव १) ।
 खोडपज्जालि पु [दे] स्थूल काष्ठ की धनि
 (दे २, ७०) ।
 खोडय पु [स्फोटक] नख से चर्म का निष्पी
 डन (दे २, ६) ।

खोडय पु [स्फोटक] फोडा, फु सी (हे २,
 ६) ।
 खोडिय पु [खोटिक] गिरलार पत्त का
 क्षेत्रपाल देवता (ती २) ।
 खोडी स्त्री [दे] १ बडा काष्ठ (परह १, ३-
 पत्र ५३) । २ काष्ठ की एक प्रकार की पेज
 (महा) । ३ नकली लकड़ी (३ प्रावधु हारि,
 पत्र ४२१) ।
 खोणि स्त्री [क्षोणि] ग्रथिनी, घरणी (अणु) ।
 'वइ पु [पति] राजा, भूपति (उप ७६८
 टी) ।
 खोणिद पु [क्षोणीन्द्र] राजा, भूमिपति
 (सण) ।
 खोणी देखो खोणि (सुर १२, ६१, सुक
 २३८, रंभा) ।
 खोद पु [क्षोद] १ चूर्णन, विदारण (ना
 १७, ६) । २ इक्षु-रस, ऊख का रस (सुप
 १, ६) । ३ रस पु [रस] समुद्र विशेष
 (दीव) । ४ वर पु [वर] द्वीप-विशेष (दीव
 ३) ।
 खोद पु [क्षोद] चूर्ण, युवनी (हम्मोर ३४) ।
 खोदोअ } पु [क्षोदोद] १ समुद्र विशेष,
 खोदोद } जिसका पानी इक्षु रस के वृन्
 रोदोद } मधुर है (जीव ३, इक) । २ मधुर पानीमती
 वापी (जीव ३) । ३ न मधुर पानी, इक्षु
 रस के समान मिठा जल (परह १) ।
 खोद न [क्षोद] मधु शहद (अण ७, ६) ।
 खोभ सक [क्षोभ्य] १ विचलित करना,
 धैर्य से च्युत करना । २ आरव्य करना ।
 ३ रज पेदा करना । खोभइ (महा) वा
 खोभन (पजम ३, ६६, सुपा १६३) । इह
 खोभित्तण, खोभइउ (उमा, वि ३१६) । इह
 खोभ पु [क्षोभ] १ विचलता, संजम (पर
 ५) । २ रस नाम का एक रावण वा पुत्र
 (पजम ५६, ३२) ।
 खोभण न [क्षोभण] क्षीन जनता विच
 लित करना 'तेनोत्तनोत्तमपुत्र' (पत्र ३
 ८०, महा) ।
 खोभिय वि [क्षोभित] विचलित किया हु
 (पजम ११७, ३१) ।
 खोम } न [क्षोम] १ मार्ग-निह उग्र
 खोमग } कनास का बना हुआ पत्र (राज)

देव-विमान-विशेष (ती ५६) । ३ पु व्यन्तर-
श्रेणीय देव-जाति-विशेष (पव १६४) ।
कोहड़ी स्त्री [कूष्माण्डी] कोहँडे का गाछ
(हे १, १२४, दे २, ५० टी) ।
कोहण वि [क्रोधन] १ क्रोधी, गुस्साखोर
(मम ३७, पत्रम ३५, ७) । २ पु इम नाम
का रावण का एक सुभट (पत्रम ५६, ३२) ।
कोहल देवो कुजहल (हे १, १७१) ।
कोहलिअ वि [कुनूहलिन्] कुतूहली,
कुतूहल-प्रेमी । स्त्री °आ (गा ७६८) ।
कोहलिआ स्त्री [कूष्माण्डिका] कोहँडा का
गाछ ।
°जह लपेसि परवइ निययवड
भरमहपि मोत्तूण ।

तह मरणे कोहलिए, अज्ज
कल्लपि फुट्टिहिसि (गा ७६८) ।
कोहली देखो कोहड़ी (हे २, ७३, दे २,
५० टी) ।
कोहल्ल देखो कोहल (षड्) ।
कोहल्ली स्त्री [दे] तापिका, तवा, पचन-पात्र-
विशेष (दे २, ४६) ।
कोहल्ली देखो कोहड़ी (पड्) ।
कोहि } वि [क्रोधिन] क्रोधी, क्रोधी-स्वभाव का
कोहिल्ल } गुस्साखोर (कम्म ४, १४०, बृह २) ।
कौरव } देखो कउरव (हे १, १, चड) ।
कौलव }
°किसिय देखो किसिय = कृषित (उप
७२८ टी) ।

°ककूर देखो कूर = कूर । (वा २६) ।
°कैर देखो °केर (हे २, ६६) ।
°कखड देखो खड (गउड) ।
°कखम देखो खम (से ३, ५६) ।
°कखम देखो खम (प्रासू २७) ।
°कखलण देखो खलण (गउड) ।
°कखिसा देखो खिसा (सुपा ५१०) ।
°कखु देखो खु (कप्पू, अमि ३७, चाए १४) ।
°कखुत्त देखो खुत्त (गउड) ।
°कखेडु देखो खेडु (सुपा ५५२) ।
°कखेव देखो खेव, 'खारकखेव व खए' (उप
७२८ टी) ।
°कखोडी देखो खोडी (परह १, ३) ।

॥ इअ सिरिपाइअसहमहणवो क्याराइसहसकलणो
दसमो तरगो समत्तो ॥

ख

ख पु [ग] १ ध्यजन-वर्ण विशेष, इसका
म्पान बगुठ है (प्राभा, प्राप) । २ न आकाश,
गान 'गत्रने ये मेहा' (हे १, १८७, कुमा,
३६, १२१) । ३ इन्द्रिय (विसे ३४४३) ।
°ग पु [ग] १ पक्षी, पग (पात्र, दे २,
५०) । २ मनुष्य की एक जाति, जो विद्या
के बचने आकाश में गमन करती है, विद्या-र-
गन (प्रात ५६) । ३ देवो गय = पग ।
°गड गो [गति] १ आराधन-मति । २ कर्म-
विशेष जो आराधन-मति का कारण है (कम्म
२, ३, नर ११) । °गामिणी स्त्री [°गामिनी]
विशेष, जिसे प्रमान में आकाश में
गमन किया जा सकता है (पत्रम ७, १४५) ।
°गुण ३ [°गुण] आराधन-वस्तु, ध्यान-वस्तु
का (गता) ।
ग... [गन्] संज्ञित पु... करना ।
ग... [गम, गउड] (प्रात ७३) ।
ग... [ग, र] ...

२ क्षय रोगवाला, क्षय-रोगी (सुपा २३३,
५७६) ।
खडअ वि [क्षपित] नाशित, उन्मूलित (श्रौप,
भवि) ।
खडअ वि [खचित] १ व्याप्त, जटित । २
मण्डित, विभूषित (हे १, १६३, श्रौप, स
११४) ।
खडअ वि [गजडित] १ खाया हुआ, भुक्त,
अन्न (पात्र, स २५०, उप पृ ४६) । २
आक्रान्त, 'नह य होति उ कमाया । खडओ
जेहि भग्गम्मो कजाकजाई न सुणेइ' (म
११४) । ३ न भोजन, भक्षण, 'खडएण व
पोएण व न य एनो ताडयो हवइ अणा'
(पत्र २, ठा ४, ४—पत्र २७६) ।
खडअ नि [अचित] क्षय-प्राप्त, क्षीण, 'किमि-
मायनयवेहो' (सुर १६, १६१) ।
खडअ पु [दे] हेनाक, स्वप्न (ठा ४, ४—
पत्र २७६) ।

खडअ } पु [चायिक] १ क्षय, विनाश,
खडग } उन्मूलन, 'से कि त खडए ? खडए
अट्टएह कम्मपयडीएण खडएण' (अणु) । २
वि क्षय से उत्पन्न, क्षय-संबन्धी, क्षय से
संबन्ध रखनेवाला । ३ कर्म-नाश से उत्पन्न,
'कम्मकखयसहावो खडओ' (विसे ३४६५, कम्म
१, १५, ३, १६, ४, २२, सम्य २३, श्रौप) ।
खडत्त न [चौत्र] खेतों का समूह, अनेक खेत
(पि ६१) ।
खडया स्त्री [खदिका] खाद्य-विशेष, सेका हुआ
श्रीहि—धान, चावा, 'दहिषयपायसखडया-
निओए' (भवि) ।
खडर पु [खदिर] वृक्ष-विशेष, खैर का गाछ
(प्राचा, कुमा) ।
खडर वि [खादिर] खदिर-वृक्ष-संबन्धी (हे १,
६७, मुपा १५१) ।
खडव [दे] देखो खडअ (ठा ४, ४—पत्र
१७६ टी) ।

हिमाचल पर्वत पर का एक महान् हृद, जहाँ से गंगा निकलती है (ठा २, ३)। °सोअ पुं [°स्रोतस्] गंगा नदी का प्रवाह (पि ८५)।

गंगली स्त्री [दे] मौन, चुप्पी (सुपा २७८, ४८७)।

गंगा स्त्री [गङ्गा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी (कस, सम २७, कप्प)। २ स्त्री-विशेष (कुमा)। ३ गोशालक के मत से काल-परिमाण-विशेष (भग १५)। ४ गंगा नदी की ऋषिष्टायिका देवी (आवम)। ५ भीष्मपितामह की माता का नाम (शाया १, १६)। कुड न [°कुण्ड] हिमाचल पर्वत पर स्थित हृद-विशेष, जहाँ से गंगा निकलती है (ठा ८)। °कूड न [°कूट] हिमाचल पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३) °दीव पु [°द्वीप] द्वीप-विशेष, जहाँ गंगा-देवी का भवन है (ठा २, ३)। °देवी स्त्री [°देवी] गंगा की ऋषिष्टायिका देवी, देवी विशेष (इक)। °वत्त पु [°वर्त्त] आवर्त्त-विशेष (कप्प)। °सय न [°शव] गोशालक के मत में एक प्रकार का काल-परिमाण (भग १५)। °सागर पु [°सागर] प्रसिद्ध तीर्थ-विशेष, जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है (उत्त १८)।

गंगेअ पुं [गाङ्गेय] १ गंगा का पुत्र, भीष्म-पितामह (शाया १, १६, वेणी १०४)। २ द्वैक्य मत का प्रवर्त्तक आचार्य (भाद्र १)। १ एक जैन मुनि, जो भगवान् पारव-नाथ के वश के थे (भग ६, ३२)।

गङ्ग १ पु [दे] वृद्ध, इस नाम की एक गङ्गाय ॥ स्लेच्छ जाति (दे २, ८४)।

गङ्गिय पु [दे] तेली। पु० घाँची (लोक प्र-४६५, १-३१ सर्ग)।

गङ्ग सक्र [गङ्ग] १ तिरस्कार करना। २ उल्लघन करना। ३ मर्दन करना। ४ पराभव करना। गङ्ग (जय ५)। कृ गङ्गीय (सिरि ३८)।

गङ्ग पु [दे] गाल (दे २, ८१)।

गंज पु [गङ्ग] भीष्म-विशेष, एक प्रकार की खाद्य वस्तु (पएह २, ५—पत्र १४८)। °साला स्त्री [°शाला] वृण, लकड़ी वगैरह डूबान रखने का स्थान (निचू १५)।

गंजण न [गङ्गण] १ अपमान, तिरस्कार (सुपा ४८०),

वेरिणवि ररगुण्यला,

वञ्जति गया न चव केसरिणो।

सभाविज्जइ मरण,

न गंजण धीरपुरिखाण (वजा ४२)।

२ कलक, दाग, 'गजणारहिओ जम्मो' (वजा १८)।

गंजण वि [गङ्गण] मर्दनकर्ता (सिरि ५४६)।

गजा स्त्री [गङ्गा] सुरा-गृह, मद्य की डूकान (दे २, ८५ टी)।

गजिअ पुं [गङ्गिअ] कल्प-गाल, दारू बेचने-वाला, कलाल (दे २, ८५ टी)।

गजिअ वि [गङ्गिअ] १ पराजित, अभिभूत, 'सगरिमगजिओ इव' (उप ६८६ टी)। २ हत, मारा हुआ, विनाशित (पिग)। ३ पीडित (हे ४, ४०६)।

गजिअ वि [दे] १ वियोग प्राप्त, वियुक्त। २ भ्रान्त-चित्त, पागल (दे २, ८३)।

गंजुअ वि [दे] रोमाञ्चित, पुलकित (जय १२)।

गजोल वि [दे] समाकुल, व्याकुल (षड्)।

गजोलिअ वि [दे] १ रोमाञ्चित, जिसके रोम खड़े हुए हों वह (दे २, १००, भवि)। २ न. हँसाने के लिए किया जाता भ्रम-म्परी, शुद्धवी, शुद्धवाहट (दे २, १००)।

गठ सक्र [गथ्] १ गठना, श्रूयना। २ रचना, बनाना। गठइ (हे ४, १२०, पड्)।

गठ देखो गथ (राय, सूअ २, ५, धर्म २)।

गठि स्त्री [गुठि] एकवार व्यायी हुई गौ (प्राक् ३२)।

गंठि पुत्री [ग्रन्थि] १ गाठ, जोड़। २ बाँस आदि की गिरह, पर्व (हे १, ३५, ४, १२०)।

३ गठरी, गाठ (शाया १, १, श्रौप)। ४ रोग-विशेष (लहुअ १५)। ५ राग-द्वेष का निबिड परिणाम-विशेष (उप २५३)।

'गठिन्ति सुदुग्नेओ वसवडवणएट्ठइगठि व्व। जोवत्त कम्मणरिओ धरणराहोमपरिणामा' (विमे ११६५)।

°छेअ पु [°च्छेअ] गाठ तोड़नेवाला, चोर-विशेष, पाकेटमार (दे २, ८६)। °भेय पु [°भेद] ग्रन्थि का भेदन (धर्म १)। °भेयाग

वि [°भेदक] १ ग्रन्थि को भेदनेवाला। २ पुं चोर-विशेष (शाया १, १८, पएह १, ३)। °वणण पु [°पर्ण] सुगन्धि गाद्य विशेष (कप्प)। °सहिय वि [°सहित] १ गठ-युक्त। २ न प्रत्याख्यान-विशेष, प्रत विशेष (धर्म २, पडि)।

गठिम न [ग्रन्थिम] १ ग्रन्थन में बनी हुई माला वगैरह (पएह २, ५, सग ६, ३३)। २ शुल्म-विशेष (पएह १—पत्र ३२)।

गठिय वि [ग्रन्थित] श्रूया हुआ, गठा हुआ, पिरोया हुआ (कुमा)।

गठिय वि [ग्रन्थिक] गाँठवाला (सुप्र २, ५)।

गठिल वि [ग्रन्थिमत्] ग्रन्थि-युक्त, गाँठ-वाला (राज)।

गड पु [दे] १ वन, जंगल। २ दारइपासित, कोतवाल। ३ छोटा मृग (दे २, ६६)। ४ नापित, नाई (दे २, ६६, आचा २, १, २)। ५ न युच्छ, समूह, 'कुसुमदामगंयुड डुविय' (महा)।

गड पुंन [गण्ड] १ गाल, कपोल (भा, सुअ ८)। २ राग-विशेष, गण्डमाला, 'वा ना करेह वीय गडोवरिकोठियातुल (उप ७६८ टी, आचा)। ३ हाथी का कुम्भस्थल (पर २६)। ४ कुच, स्तन (उत्त ८)। ५ अना का जत्या, इधु-समूह (उप ५ २५६)। ६ छन्द-विशेष (पिग)। ७ फोडा, स्तोत्र (उत्त १०)। ८ गाँठ, ग्रन्थि (अनि १७, अनि १८४)। °भेअ, भेअअ पु [°भेअ] चोर-विशेष, पाकेटमार (अनि १७, अनि १८४)। °माणिया स्त्री [°माणिया] पाच का एक प्रकार की नाप (राय)। °माना स्त्री [°माला] रोग-विशेष, जिसमें शीमा फूट जाती है (सए)। °वत्त न [°वत्त] वजा तल (सुप्र ८, १२८)। °लहा स्त्री [°लगा] कपोल-माली, गाल पर लगाई हुई वस्तु वगैरह की छटा (निर १, १, गठ)। °वन्हा स्त्री [°वन्हा] पील मन्त्रों से पुत्र प्राप्ति वाली स्त्री (उत्त ८)। °वाणिया स्त्री [°वाणिया] वाम ना पाण-विशेष, जो ग्रन्थ से छोटा होता है (भा ७, ८)। °वाम ड [°वाड] गाल का पारव-भाग (गठ)।

गडाहड वि [रण्डखण्ड] टुकड़ा-टुकड़ा
किया हुआ (सुपा ३८५) ।

गडिअ पु [खण्डिक] छात्र, विद्यार्थी
(श्रौप) ।

गटिअ वि [रण्डित] छिन्न, विखिन्न (हे
१, ५३, महा) ।

गडिअ पु [दे] १ मागध, भाट, विरुद-पाठक ।
२ नि अनिवायं, निवारण करने को अशक्य
(दे २, ७८) ।

गटिआ स्त्री [रण्डिका] खण्ड, टुकड़ा
(श्रमि ६२) ।

गडिआ स्त्री [द] नाप-विशेष, बीस मन की
नाप (स २४) ।

गटो स्त्री [दे] १ अणुद्वार, छोटा गुप्त द्वार
(शाया १, १८—पत्र २३६) । २ किले का
छिद्र (शाया १, २—पत्र ७६) ।

गटु (श्रम) देवी रगमा । गुजराती मे 'खाडु'
बहने है (प्राकृ १२१) ।

गटुअ न [दे] बाहु-बलय, हाथ का प्राभूषण-
विशेष, बाहुबंद (मुच्छ १८१) ।

गटुअ देगो रडग (पत्र १४३) ।

गत पु [दे] पिता, बाप (पिड ४३२, सुख
२, ३, ५, ८)

गत द्यो रग ।

गत नि [श्रान्त] क्षमा-शील, क्षमा-भुक्त (उप
३२० टी, श्रमू भवि) ।

गतइय पि [श्रान्तव्य] क्षमा-योग्य, माफ
करने योग्य (विक्र ३८, भवि) ।

गति स्त्री [चाणित] क्षमा, क्षोभ का अभाव
(सग महा, प्राकृ ४८) ।

गति देगो रग ।

गतिया } स्त्री [दे] माता, जननी (पिड
२०) } ४३०, ४३१) ।

गटु पु [गन्ध] १ वास्तविक, महादेव का
पुत्र (दे २, ५ प्राप्र, शाया १, १—पत्र
१६) । २ राम का मन्त्र नाम का एक मुनि
(रुच ६७ ११) । ३ उमार पु [कुमार]

गटु पु [गह] १ गह (दे २, ७१) । २
गह (दे २, ७१) । ३ गह पु [गह]

गह पु [गह] १ गह (दे २, ७१) । २
गह (दे २, ७१) । ३ गह पु [गह]

गह पु [गह] १ गह (दे २, ७१) । २
गह (दे २, ७१) । ३ गह पु [गह]

स्त्री [श्री] एक चोर-सेनापति की भार्या का
नाम (विपा १, ३) ।

खदग पु [स्कन्दक] १-२ ऊपर देखो । ३
खदय } एक जैन मुनि (ज्व, भग, अत, सुपा

४०८) । ४ एक परिव्राजक, जिसने भगवान्
महावीर के पास पीछे से जैन दीक्षा ली थी

(पुष्क ८४) ।

खदरुद न [स्कन्दरुद्र] शास्त्र-विशेष (धर्मस
६३५) ।

खदिल पु [स्कन्दिल] एक प्रख्यात जैनाचार्य,
जिसने मथुरा में जैनागमों को लिपि-बद्ध किया

(गच्छ १) ।

खध पु [स्कन्ध] भित्ति, भीत, दीवार (आचा
२, १, ७, १) ।

खध पु [स्कन्ध] १ पुद्गल-प्रचय, पुद्गल का
पिण्ड (कम्म ४, ६६) । २ समूह, निकर

(विसे ६००) । ३ कच्चा, काँच (कुमा) । ४
पेड का घड, जहाँ से शाखा निकलती है

(कुमा) । ५ छन्द-विशेष (पिंग) । °करणी स्त्री

[°करणी] सांख्यियों को पहनने का उपकरण-
विशेष (शोध ६७७) । °मत वि [°मत्]

स्कन्धवाला (शाया १, १) । °वीज पु

[°वीज] स्कन्ध ही जिसका बीज होता है
ऐसा कदली बगैरह का गाछ (ठा ५, २) ।

°सालि पु [°शालिन्] व्यन्तर देवों की एक
जाति (राज) ।

रधगि पु [दे स्कन्धाग्नि] स्थूल काष्ठों की
आग (दे २, ७०, पाप्र) ।

रधमस पुं [दे] हाथ, भुजा, बाहु (दे २,
७१) ।

रधमसी स्त्री [दे] स्कन्ध-यष्टि, हाथ (पड) ।
रधय देखो खध (पिंग) ।

रधयट्टि स्त्री [दे स्कन्धयष्टि] हाथ, भुजा,
(दे २, ७१) ।

रधर पुत्री [कन्धर] भोवा, गला, गरदन
(सण) । स्त्री रा (महा) ।

रधलट्टि स्त्री [दे स्कन्धयष्टि] स्कन्ध-यष्टि,
हाथ, भुजा (पड) ।

रधवार देगो रधवार (महा) ।
रधवार देगो रधवार (प्राकृ ३०) ।
रधवार पु न [रधवार] देग-विशेष (पत्र
६८, ६६) ।

खधार देखो खधावार (पत्र ६६, २८, महा;
विसे २४४१) ।

खधाल वि [स्कन्धवत्] स्कन्धवाला (सुपा
१२६) ।

खधावार पु [स्कन्धावार] छावनी, सैन्य का
पडान, शिविर (शाया १, ८, स ६०३,
महा) ।

खधि वि [स्कन्धिन्] स्कन्धवाला (श्रौप) ।
खधिल्ल देखो खधि (स ६६७) ।

खधी स्त्री देखो खध (श्रौप) ।
खधीधार पु [दे] बहुत गरम पानी की धारा

(दे २, ७२) ।
खप सक [सिच्] सिञ्चना, छिड़कना ।
खपइ (भवि) ।

खपणय न [दे] बल, कपडा, 'बहुसेयसिन्न-
मलमडलखणयचिकणसरीरो' (सुपा ११) ।

खभ पु [स्तम्भ] खंभा धमा (हे १, १८७,
२, ४, ६, भग, महा) ।

खभ सक [स्कम्] क्षुब्ध होना, विचलित
होना । खभेजा, खभाएजा (ठा ५, १—पत्र
२६२) ।

खभतित्थ न [स्तम्भतीर्थ] एक जैन तीर्थ,
गुजरात का प्राचीन 'खभण' गाँव (कुप्र
२१) ।

खभल्लिअ वि [स्तम्भि] खभे से बाँधा हुआ
(से ६, ८५) ।

खंभाइत्त न [स्तम्भादित्थ] भुजूर देश का
एक प्राचीन नगर, जो आजकल 'खभात' नाम

से प्रसिद्ध है (ती २३) ।
खभालण न [स्तम्भालगन्] खम्भे से बाधना
(पणह १, ३) ।

खन्नखरग पुन [दे] सूखी रोटी (धर्म २) ।
खरग पु [खड्ग] १ पशु-विशेष, गँडा (उप
१४८, पणह १, १) । २ पुन तलवार, अस्ति

(हे १, ३४, स ५३१) । °धेणुआ स्त्री

[°धेनु] धूरी, चाकू (दस) । °पुरा स्त्री

[°पुरा] विदेह वर्ष की स्वनाम प्रसिद्ध नगरी
(ठा २, ३) । °पुरी स्त्री [°पुरी] पूर्वोक्त ही

अर्थ (इक) ।
गगारसगि न [रडगागडिग] तलवार की
लवाई (सिरि १०३२) ।

सुगन्धित लेप-द्रव्य (विपा १, ६) । °वट्टि स्त्री [°वट्ति] गन्ध-द्रव्य की बनाई हुई गोली (शाया १, १, श्रौप) । °वह पु [°वह] पवन, वायु (कुमा, गा ५४२) । °वास पु [°वास] १ सुगन्धित वस्तु का पुट । २ चूर्ण-विशेष (सुपा ६७) । °समिद्ध वि [°समृद्ध] १ सुगन्धित, सुगन्ध पूर्ण । २ न नगर-विशेष (आवम, इक) । °सालि पु [°शालि] सुगन्धित स्त्रीहि, धान (आवम) । °हत्थि पु [°हस्तिन्] उत्तम हस्ती, जिसकी गन्ध से दूसरे हाथी भग जाते हैं (सम १, पडि) । °हरिण पुं [°हरिण] कस्तुरिया हिरन (कप्प) । °हारग पु [°हारक] १ इस नाम का एक म्लेच्छ देश । २ गन्धहारक देश का निवासी (पएह १, १—पत्र १४) ।

गधण पु [गन्धन] एक सर्प-जाति (दस २, ८) ।

गंधपिसाय पु [दे] गन्धिक, पसारी (दे २, ८७) ।

गधय देखो गध (महा) ।

गधलया स्त्री [दे] नासिका, श्राण (दे २, ८५) ।

गधवाह पु [गन्धवाह] पवन (समु १८०) ।

गंधव्र पु [गन्धर्व] १ देव-गायक, स्वर्ग-गायक (उत्त १, सण) । १ एक प्रकार की देव-जाति, व्यतर देवों की एक जाति (पएह १, ४, श्रौप) । ३ यज्ञ-विशेष, भगवान् कुन्धुनाथ का शासनाधिष्ठायक यज्ञ (सति ८) । ४ न मुहूर्त-विशेष (सम ५१) । ५ नृदय-शुक्त गीत, गान (विपा १, २) । °कठ न [°कण्ठ] रत्न की एक जाति (राय) । °घर न [°गृह]

सगीत-गृह, सगीतालय, सगीत का श्रम्यास-स्थान (ज १) । °णगर, °नगर न [°नगर] श्रसत्य-नगर, सव्या के समय में श्राकारा में दीखता मिथ्या-नगर, जो सानी ज्वात का सूचक है (श्राण, पव १६८) । °पुर न [°पुर] देखो °णगर (गडड) । °लिपि स्त्री [°लिपि] लिपि-विशेष (सम ३५) । °ववाह पु [°विवाह] उत्सव-रहित विवाह, स्त्री-पुंस्य को इच्छा के अनुसार विवाह (सण) । °साला स्त्री [°शाला] गान-जाला, नगीत-गृह, संगीतालय (वन १०) ।

गधव्र वि [गन्धर्व] १ गधर्व-सवन्वी, गधर्व से संबन्ध रखनेवाला (ज १, श्रमि ११५) । २ पु. उत्सव-हीन विवाह, विवाह-विशेष, 'गधव्येण विवाहेण सयमेव विवाहिया' (आवम) । ३ न गीत, गान (पात्र) ।

गधव्वि वि [गन्धर्विन्] गानेवाला (ती ३) । गंधव्वि अ वि [गन्धर्विक] १ गधर्व-विद्या में कुशल (सुपा १६६) ।

गंधा स्त्री [गन्धा] नगरी-विशेष (इक) । गधाण न [गन्धान] छन्द-विशेष (पिग) । गंधार पु [गन्धार] देश-विशेष, कन्वार (स ३८) । २ पर्वत-विशेष (स ३६) । ३ न नगर-विशेष (स ३८) ।

गधार पु [गान्धार] स्वर विशेष, रागिनी-विशेष (ठा ७) ।

गंधारी स्त्री [गान्धारी] १ सती विशेष, कृष्ण वासुदेव की एक स्त्री (पडि, श्रत १५) । २ विद्यादेवी-विशेष (सति ६) । ३ भगवान् नमिनाथ की शासनदेवी (सति १०) ।

गंधारी स्त्री [गान्धारी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

गधावइ पुं [गन्धापातिन्] स्वनाम-प्रसिद्ध गंधावाइ पुं एक वृत्त, चैताव्य पर्वत (इक, ठा २, ३—पत्र ६६, ८०, ठा ४, २—पत्र २२३) ।

गधि वि [गन्धिन्] गध-युक्त, गधवाला (कप्प, गडड) ।

गधिअ वि [दे] दुर्गन्ध, साराव गधवाला (दे २, ८३) ।

गधिअ पु [गान्धिक] गन्ध-द्रव्य बेचनेवाला, पसारी (दे २, ८७) ।

गधिअ वि [गन्धिक] गध-युक्त, 'सुगन्धवर-गन्धगन्धिण' (श्रौप) । °साला स्त्री [°शाला] चारू बगैरह गन्धवाली चीज की दूकान (पव ६) ।

गधिअ वि [गन्धित] गन्ध युक्त, गधगाना (स ३७२, गा ५४५, ८७२) ।

गधिल पुं [गन्धिल] वर्ष-विशेष, विजय-शेखर-विशेष (ठा २, ३, २४) ।

गधिलानई स्त्री [गन्धिलानती] १ लेप विशेष, विजयवर्ष-विशेष (ठा २, ३, २४) । २ नगरी विशेष (इ ६१) । °कूड न [°कूट]

१ गन्धमादन पर्वत का एक शिखर (ज ५) । २ चैताव्य पर्वत का शिखर-विशेष (ठा ६) । गधिस्त्री स्त्री [दे] छाया, छाह (ज १०३१ टी) ।

गधुत्तमा स्त्री [गन्धोत्तमा] मदिरा, नुप (दे २, ८६) ।

गधेस्त्री स्त्री [दे] १ छाया, छाह । २ मधु मक्षिका (दे २, १००) ।

गंधोदग न [गन्धोदक] सुगन्धित जल गंधोदय } सुगन्ध वासित पानी (श्रौप विप १ ६) ।

गंधोष्ठी स्त्री [दे] १ इच्छा, प्रमिलाया । २ रजनी, रात (दे २, ६६) ।

गधिपि } देखो गम = गम् ।
गधिपणु }

गभीर न [गान्भीर्य] १ गम्भीरता । २ श्रौतीद्वय (सूत्रनि ६६) ।

गभीर वि [गम्भीर] १ गम्भीर, श्रम्यास, श्रतुच्छ, गहरा (श्रौप, से ६, ४४, कप्प) । २ पुन गहन-स्थान, गहन प्रदेश, जहाँ प्रति शब्द उचित हो (विसे ३४०८, गृह १) ।

३ पु रावण का एक मुसट (पवम ५६, ३) । ४ यदुवश के राजा श्रन्वकवृष्णि का पुन पुन (श्रत ३) । ५ न समुद्र के किनारे पर स्थित इन नाम का एक नगर (सुर १३, ३०) ।

°पोय न [°पोत] नगर-विशेष (शाया १, १७) । °मालिणी स्त्री [°मालिनी] मा विदेह-वर्ष की एक नगरी (ठा ७ ३) ।

गभीरा स्त्री [गम्भीरा] १ गभीर-नृदया स्त्री (वव ५) । २ माया-नृदय वा एक नृदय (पिग) । ३ सुद्व जल-विशेष, चारुिद्रव्य जीव विशेष (पएण १) ।

गभीरिअ न [गान्भीर्य] गम्भीरता, गम्भीरता (हे २, १०७) ।

गभीरिम पुत्री [गान्भीर्य] ऊपर गत (मण) ।

गगण न [गगन] श्रावण, श्रम्यर (सम ३ ६८) । °णटण न [°नण्ण] यथा न पवण पर न एक नगर (सक) । °वट्ठम, °वट्ट न [°वट्ठ] विनायक पर्वत पर न एक नगर (गण ६५) ।

गगणग पुं [गगनाद्ग] श्रम्यर (सम ३ ६८) ।

गगण न [गगन] श्रावण, श्रम्यर (सम ३ ६८) । °णटण न [°नण्ण] यथा न पवण पर न एक नगर (सक) । °वट्ठम, °वट्ट न [°वट्ठ] विनायक पर्वत पर न एक नगर (गण ६५) ।

गगणग पुं [गगनाद्ग] श्रम्यर (सम ३ ६८) ।

गगणग पुं [गगनाद्ग] श्रम्यर (सम ३ ६८) ।

गणेत्तु (भावा)। कवक खन्नमाण (पि ५५०)।

गण पु [क्षण] काल-विशेष, बहुत थोडा नमय (ठ २, ५, हे २, २०, गउड, प्रासू १३८)। °जोड वि [°योगिन्] क्षणमात्र छेनेवाला (सूत्र १, १, १)। °भगुर नि [°भङ्गुर] क्षण-विनरवर, क्षणिक (पउम ८, १०५, गा ४२३, विवे ११४)। °या ली [°दा] रात्रि, रात (उप ७६८ टी)।

गगकगग } अक [खगखगाय] 'खण-गगगगगग } खण' श्रावाज करना। वण-मणनि (पउम ३६, ५३)। वक खग-कगगन (स ३८४)।

गगग वि [गनक] खोदनेवाला (णया १, १८)।

गगण न [गनन] खोदना (पउम ८६, ६०, उप २२१)।

गगय देतो गग = क्षण (भावा, उवा)।

गगय नि [गनक] खोदनेवाला (दे १, ८५)।

गगपिपि नि [गानिन्] खुदाया हुआ (सुपा १५८, महा)।

गगि ली [गनि] खान, आकर (सुपा ३५०)।

गगिण } देमा रणिय = क्षणिक, 'सहाइया गगणग } कामगुणा क्षणिकका' (धु १५२, पनं २०८)।

गगिण १ [गनित्र] खोदने का अन्त, खत्ती (दे ६, ८)।

गगिण नि [क्षणिक] १ क्षण-विनरवर, गग नुर (निने १६७२)। २ वि फुरमत-पाना, नाम धया से रहित, 'नो तुन्दे विव पन् गगिणा इय वुत्तु नोहरिओ' (धम्म ८ टी)। °गड वि [°वादिन्] मर्गे पदार्थ 'गग विचय मालनेयाना, वीढमत का पणनी' (रा०)।

गगिण नि [गनिन्] गुदा हुआ (सुपा २५६)।

गगि ५३ गगि (पात्र)।

गगुना [ट] मा रा गुग, मागिना (१०१) = ६८)।

गगुना [] माग माग हुआ (२०, ६८, ६३, २२१)।

गगुना १ [ग २] मागने काय (दे २, ३६)।

खण्णु देखो खाणु (दे २, ६६, षड्)।

खण्णुअ पु [दे. स्थाणुक] कीलक, खोटी, खूँटा (दे २, ६८, गा ६४, ४२२ अ)।

खत्त न [दे] १ खात, खोदा हुआ (दे २, ६६, पात्र)। २ शख से तोडा हुआ (श्रोष ३८०)। ३ सेंध, चोरी करने के लिए दीवाल मे किया हुआ छेद (उप ४१६, णया १, १८)। ४ खाद, गोबर (उप ५६७ टी)। °खगग पु [°खनक] सेंध लगाकर चोरी करनेवाला (णया १, १८)। °खगण न [°खनन] सेंध लगाना (णया १, १८)। °मेह पु [°मेघ] करोप के समान रसवाला मेघ (भग ७, ६)।

खत्त पु [क्षत्र] क्षत्रिय, मनुष्य जाति-विशेष (सुपा १६७, उत १२)।

खत्त वि [क्षात्र] १ क्षत्रिय-सक्धी, क्षत्रिय का। २ न क्षत्रियत्व, क्षत्रियपन, 'ग्रहह अखत्तं करेइ कोइ इमो' (धम्म ८ टी, नाट)।

खत्तय पु [दे] १ खेत खोदनेवाला। २ सेंध लगाकर चोरी करनेवाला। ३ ग्रह-विशेष, राहु (भग १२, ६)।

खत्ति पु [दे] एक म्लेच्छ-जाति (मृच्छ १५२)।

खत्ति पुं ली [क्षत्रिन्] नीचे देखो, 'खत्तीण सेट्टे जह दतवक्के' (सूत्र १, ६, २२)।

खत्तिअ पुं ली [क्षत्रिय] मनुष्य की एक जाति, क्षत्री, राजन्य (पिंग, कुमा, हे २, १८५, प्रासू ८०)। °कुडगगाम पुं [°कुण्डग्राम] नगर-विशेष, जहा श्रीमहावीर देव का जन्म हुआ था (भग ६, ३३)। °कुडपुर न [°कुण्डपुर] पूर्वोक्त ही अर्थ (भावा २, १५, ४)। °विज्जा ली [°विद्या] धनु-विद्या (सूत्र २, २)।

खत्तिणी } ली [क्षत्रियाणी] क्षत्रिय जाति खत्तियाणी } की ली (पिंग, कप्प)।

खट्ट न [दे] प्रभूत लाभ (पचा १७, २१)।

खट्ट वि [दे] १ घुन, नीत (दे २, ६७, गुग ६१०, उप २५२, सण, भवि)। २ प्रह, बटन 'पडे भवदुमज्जे तरद निगा नेम गुग्गनि' (मांठ ११८, दे २, ६३ पर २, ट ८)। ३ निरान, बडा

(श्रोष ३०७, ठा ३, ४)। ४ अ शीघ्र, जल्दी (भावा २, १, ६)। °दाणिय वि. [°दानिक] समृद्ध, अदि-सपन्न (श्रोष ८६)।

खन्न [दे] देखो खण्ण (पात्र)।

खन्नमाण देखो खण = खन्।

खन्नुअ [दे] देखो खण्णुअ (पात्र)।

खपुसा ली [दे] एक प्रकार का जूता (बृह ३)।

खप्पर पु [कपेर] १ मनुष्य-जाति-विशेष, 'पत्ते तम्मि दमएण्णेषु पवल ज खप्पराए वल' (रभा)। २ शिक्षा-पात्र, कपाल (सुपा ४६५)। ३ खोपडी, कपाल (हे १, १८१)। ४ घट वगैरह काटुकडा (पउम २०, १६६)।

खप्पर } वि [दे] लूझ, लूबा, निष्ठुर खप्पुर } (दे २, ६६, पात्र)।

खम सक [क्षम] १ क्षमा करना, माफ करना। २ सहन करना। खमइ (उवर ८३, महा)। कर्म खमिज्जइ (भवि)। कृ खम्मियव्व (सुपा ३०७, उप ७२८ टी, सुर ४, १६७)। प्रयो खमावइ (भवि)। सक खमावइत्ता, खमावित्ता (पडि, काल)। कृ खमावियव्व (कप्प)।

खम वि [क्षम] १ उचित, योग्य, 'सच्चित्तो आहारो न खमो मणसा वि पयेउ' (पच्च ५४, पात्र)। २ समर्थ, शक्तिमान् (दे १, १७, उप ६५०, सुपा ३)।

खमग पु [क्षमक, क्षपक] तपस्वी जैन साधु (उप ४३२, श्रोष १४०, भत्त ४४)।

खमण न [क्षपण] तपश्चर्या, वेला, तेला आदि तप (पिड ३१२)।

खमण न [क्षपण, क्षमण] १ उपवास (बृह १, निह २०)। २ पु. तपस्वी जैन साधु (ठा १०—पत्र ५१४)।

खमय देखो खमग (श्रोष ५६४, उप ४८६, भत्त ४०)।

खमा ली [क्षमा] १ पृथिवी, भूमि, 'उक्कूढ-रामाभारो' (सुपा ३४८)। २ क्रोध का श्रमान, क्षान्ति (हे २, १८)। °वइ पु [°पति] राजा, नृप, भूपति (धर्म १६)। °समण पु [°श्रमण] साधु, अदि, मुनि (पडि)। °हर पुं [°वर] १ पर्वत, पहाड। २ माधु, मुनि (सुपा ३२६)।

गण पुं [गण] १ समूह, समुदाय ब्रह्म, थोक (जी ३४, कुमा, प्रासू ४, ७५, १५१) । २ गच्छ, समान आचार व्यवहारवाले साधुओं का समूह (कम्प) । ३ छन्द-शास्त्र प्रसिद्ध मात्रा-समूह (पिंग) । ४ शिव का अनुचर (पात्र, कुमा) । ५ मल्लो का समुदाय (भ्राणु) । ०ओ भ्र [तस्] अनेकश, बहुश (सूत्र २, ६) । ०नायग पु [नायक] गण का मुखिया (शाया १, १) । ०नाह पु [नाथ] १ गण का स्वामी, गण का मुखिया (सुपा २, १०) । २ गणेश्वर, जिनदेव का प्रधान शिष्य (पठम १२, ६) । ३ आचार्य, सूरि (सार्ध २३) । ०भाव पुं [भाव] त्रिविक-विशेष (गड्ड) । ०राय पुं [राज] १ सामन्त राजा (भग ७, ६) । २ सेनापति (भाव ३, कम्प) । ०वइ पु [पति] १ गण का स्वामी । २ गणेश, गजानन, शिवपुत्र (गा ३७२ गड्ड) । ३ जिनदेव का मुख्य शिष्य, गणेश्वर (सिग्ध २) । ०सामि पु [स्वामिन] गण का मुखिया, गणेश्वर (उप २०० टी) । ०हर पुं [धर] १ जिनदेव का प्रधान शिष्य (सम ११३) । २ अनुपम ज्ञानादिगुण-समूह को धारण करनेवाला जैन साधु, आचार्य चगैरह, 'सैजभवं गणहर' (भावम, पत्र २७६) । ०हरिदि पु [धरेन्द्र] गणेश्वरो में श्रेष्ठ, प्रधान गणेश्वर (पठम ३, ४३, ५८, १) । ०हारि पु [धारिन्] देखो ०हर (गण २३, सार्ध १) । ०जीव पु [जीव] गण के नाम से निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १) । ०वच्छेदय, ०वच्छेदय, ०वच्छेयय पु [वच्छेदक] साधु-गण के काम की चिन्ता करनेवाला साधु (भाचा २, १, १०, ठा ३, ३, कम्प) । ०हिवह पुं [धिपति] १ शिव-पुत्र, गजानन, गणेश (गा ४०३, पात्र) । २ जिनदेव का प्रधान-शिष्य (पठम २६, ४) । गणना पु [गणक] १ ज्योतिषी, जोशी, ज्योतिष-शास्त्र का जानकार, दैवज्ञ (शाया १, १) । २ मंत्रारी, भाण्डानारिक (शाया १, १—पत्र १६) । गणण न [गणन] गिनती, संख्या (वव १) । गणणा स्त्री [गणना] गिनती, संख्या, संख्यान (सुर २, १३२, प्रासू १००, सूत्र २, २) ।

गणणाइआ स्त्री [दे गण-नायिका] पार्वती, चण्डी, शिवपत्नी (दे २, ८७) । गणय देखो गणग (श्रीप, सुपा २०३) । गणसम वि [दे] गोष्ठी-रत्न, गोठ में लीन (दे २, ८७) । गणायमह पुं [दे] विवाह-गणक (दे २, ८६) । गणाविअ वि [गणित] गिनती कराया हुआ (स ६२६) । गणि वि [गणिन्] १ गण का स्वामी, गण का मुखिया । स्त्री गणिणी (सुपा ६०२) । २ पु. आचार्य, गच्छनायक, साधु-समुदाय का नायक (ठा ८) । ३ जिनदेव का प्रधान साधु-शिष्य (पठम ६१, १०) । ४ परिच्छेद, निश्चय, सिद्धान्त (एदि) । ०पिडग न [पिटक] १ वारह मुख्य जैन आगम ग्रन्थ, द्वादशाङ्गी (सम १, १०६) । २ नियुक्ति बगैरह से युक्त जैन आगम (श्रीप) । ३ पु. यक्ष-विशेष, जिन-शासन का अविष्टायक देव (संति ४) । ४ निश्चय-समूह, सिद्धान्त-समूह (एदि) । ०विज्ञा स्त्री [विद्या] १ शास्त्र-विशेष । २ ज्योतिष और निमित्त शास्त्र का ज्ञान (एदि) । गणि पु स्त्री [गणि] अध्ययन, परिच्छेद, प्रकरण (एदि १४३) । गणिम न [गणिम] गिनती से बेची जाती वस्तु, सख्या पर जिसका भाव हो वह (भा १८, शाया १, ८) । गणिम न [गणिम] १ गणना, गिनती, सख्या । २ वि संख्येय, जिसकी गिनती की जा सके वह, (भ्राणु १५४) । गणिय वि [गणित] १ गिना हुआ । २ न गिनती, सख्या (ठा ६, ज २) । ३ जैन साधुओं का एककुल (कम्प) । ४ भक्त गणित, गणित-शास्त्र (एदि, भ्राणु) । ०लिपि स्त्री [लिपि] लिपि-विशेष, भक्त-लिपि (सम ३५) । गणिय पुं [गणिक] गणित-शास्त्र का ज्ञाता, 'गणिय जायइ गणिका' (भ्राणु) । गणिया स्त्री [गणिका] केल्या, गणिका (भा १२ विपा १, २) । गणिर वि [गणयित्] गिनती करनेवाला (गा २०८) ।

गणेशिआ स्त्री [दे] १ च्वास का रू-गणेशी } हुआ हाथ का शानुपण-विदे (शाया १, १६—पत्र २१३, श्रीप. म्, महा) । २ भ्रज-माला (दे २, ८१) । गणेशर पुं [गणेश्वर] १ गण का नाकर । २ छन्द-विशेष (पिंग) । गणग वि [गण्य] गणनीय, संख्येय (संवेत १०) । गणणा (ना) स्त्री [गणना] गिनती (मह १०२) । गत्त न [गात्र] देह, शरीर (श्रीप, पाप म् २, १०१) । गत्त देखो गड्ड (भग १५) । स्त्री गत्ता (मुग २१४) । गत्त न [दे] १ ईया, चौपाई या चारपाई की लकड़ी-विशेष । २ पक, कदम (दे २, ६६) । ३ वि गत्त, गया हुआ (पट) । ०गत्तण वि [कर्तन] काटनेवाला, खेद (सूत्र १, १५, २४) । गत्तडि स्त्री [दे] १ गवादीनी, गोचर दूध गत्ताडी (दे २, ८२) । २ गापिता, गन्-वाली स्त्री (पट दे २, ८२) । गत्थ वि [ग्रन्थ] कवचित्त, ग्रन्थ किया हुआ, 'ग्रन्थहृच्छलीमगच्छा (१ ह्या)' (पट १, ३—पत्र ४४, नाट—चैत १५६) । गट सक [गट्] बोलना, कहना । वट गर्दत (नाट—चैत ४४) । गट्टि देखो गड्ड = गति (वेन्द ३५१) । गट्टुअ (श्री) भ्र [गट्टा] जाकर (मह ८८) । गट्टु देखो गज्ज = गय (प्राक २१) । गट्टुतोय पु [गर्दतोय] लोतानिक देग रू एक जाति (सम ८५, शाया १, ८) । गट्टुभ पुं [ट्ट] कट्टु-प्वानि, कट्टु-मट्टु काट (द २, ८२, पात्र, म १११, ४२०) । गट्टुभ देखो गट्टुह = गर्दम (पात्र) । गट्टुभय देखो गट्टुहय (भाचा २, ३ १, भावम) । गट्टुभाल पु [गट्टुभाल] च्वातन-प्रसिद्ध रू परिजाव (ना) । गट्टुभालि पु [गट्टुभालि] रू देव दुर्गा (मि २५) । गट्टुभित्त पुं [गट्टुभित्त] ज्वातनी का रू गत्ता (मि २०, मि २६१, ४००) ।

गरिअ नि [दे] भुक्त, भक्षित (दे २, ६७, भवि) ।

गरिआ स्त्री [दे] नौकरानी, दासी (श्रीध ४३८) ।

गरिसुअ पु [दे खरिशुक] कन्द-विशेष (श्रा २०) ।

गरुड्डी स्त्री [रुड्डी] एक प्राचीन लिपि जो दाहिने से बाएँ को लिखी जाती थी । गाधार लिपि । देखो, रुरोड्डिआ (परण १) ।

गरुड वि [दे] १ कठिन, कठोर । २ स्पष्ट, विषम और ऊँचा (दे २, ७८) ।

गरुडिआ स्त्री [खरोष्टिका] लिपि-विशेष (मम ३५) ।

गल शक [सल] १ पडना, गिरना । २ भूलना । ३ लकना । खलइ (प्राप्र) । वक्र गलत, रलमाण (से २, २७, गा ५४६, मुपा ६११) ।

गल शक [सल] अपसरण करना, हटना । ग्नाहि (उत्त १२, ७) ।

गल म [सल] पाद प्रति में प्रयुक्त होता मध्य (प्राठ ८१) ।

गल नि [गल] १ दुर्जन, श्रवण मनुष्य (सुर १, १६) । २ न धान साफ करने का स्थान (विपा १८, श्रा १४) । ३ पू वि [पू] रनिहान या खलियान को साफ करनेवाला (शुभा, पट्, प्राभा) ।

गलइअ वि [दे] रिक्त, खाली (दे २, ७१) ।

गलगल शक [सल] 'खल खल' भावान करना । गलसलेइ (पि ५५८) ।

गलगादिअ वि [दे] मत्त, वमत्त (दे २, १७) ।

गलण न [सल] १ नीचे देवो (प्राचा, ने ८, ५५, गा ४६६, वज्जा २६) ।

गलणा स्त्री [गलना] १ गिर जाना, निपतन (ः २ ६८) । २ विगमना, भजन (श्रीध ७८८) । ३ घटायान, गायत, 'रोजा शुणो, गलना गरनि उर मन्म वनएण' (उप १३६ टी) ।

गलणवि वि [दे] शुभ सोम प्राप्त (गरि) ।

गलणवि पु [गलण] नदी के प्रवाह को गलणवि प्रासाद 'गलणविहारी' दिशि-निर्माण' (मु ३, १६, २, ५४) ।

खला शक [दे] खराब करना, नुकसान करना, 'तारवि खलो खलाइ य' (पउम ३७, ६३) ।

खलिअ वि [खलि] १ क्का हुआ । २ गिरा हुआ पतित (हे २, ७७, पाप्र) । ३ न अपराध, गुनाह । ४ भूल (से १, ६) ।

खलिअ वि [खलि] खल से व्याप्त, खलि-खचित (दे ४, १०) ।

खलिण पुन [खलि] १ लगाम (पाप्र) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष (पव ५) ।

खलिया स्त्री [खलिका] तिल वगैरह का तैल-रहित चूर्ण खली, खरी (सुपा ४१४) ।

खलियार सक [खली + कृ] १ तिरस्कार करना, धृत्कारना । २ ठगना । ३ उपद्रव करना । खलियारसि, खलियारंति (सुपा २३७, स ४६८) ।

खलियार पु [खलिकार] तिरस्कार, निर्भर्त्सना (पउम ३६, ११६) ।

खलियारण न [खलीकरण] तिरस्कार (पउम ३६, ८४) ।

खलियारणा स्त्री [खलीकरणा] वक्त्रना, ठगाई (स २८) ।

खलियारिअ वि [खलीकृत] १ तिरस्कृत (पउम ६६, २) । २ वञ्चित, ठगा हुआ (स २८) ।

खलि वि [खलि] खलन करनेवाला (वजा ५८, सण) ।

खली स्त्री [दे खली] तिल-पिण्डिका, तिल वगैरह का स्नेहरहित चूर्ण, खली (दे २, ६६, मुपा ४१५, ४१६) ।

खलीकय देवो खलियारिअ (चउ ४४) ।

खलीकर देवो खलियार = खली + कृ । खली-करेइ (स २७) । कर्म खलीकरीयइ, खली-किजइ (स २८, मण) ।

खलीण न [खलीण] देवो खलिण (सुपा ७७, न ५७८) । २ नदी का किनारा, 'वनीणमद्विय गणमाणे' (विपा १, १—पत्र—१६) ।

खलु म [खलु] विशेष-सूचक अव्यय (दयनि ४, १६) ।

खलु म [खलु] इन प्रयोगों का सूचक अव्यय— १ धनधारण, निश्चय (जी ७) । २ पून, निर (प्राचा) । ३ पादप्रति और वाक्य की

शोभा के लिए भी इसका प्रयोग होता है (प्राचा; निचू १०) । 'खित्त न [°चेत्र] जहाँ पर जहरी चीज मिले वह क्षेत्र (वव ८) ।

खलुं क पुं [दे] १ गली बैल, श्रविनीत बैल, (ठा ४, ३—पत्र २४८) । २ श्रविनीत शिष्य, कुशिष्य (उत्त २७) ।

खलुकिज्ज पु [दे] १ गली बैल सबन्धी । २ न उत्तराध्ययन सूत्र का इस नाम का एक अध्ययन (उत्त २७) ।

खलुग देवो खलुय (पव ६२) ।

खलुय न [खलुक] गुल्फ, पाँव का मणि-बन्ध (विपा १, ६) ।

खल न [दे] १ वाड का छिद्र । २ विलास (दे २, ७७) । ३ वि. खाली, रिक्त, 'जाया खलकवोला परिसोसियमसोणिया धणिय' (उप ७२८ टी, दे १, ३८) ।

खल वि [दे] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो वह (दे १, ३८) ।

खलइअ वि [दे] १ सकुचित, सकोच-युक्त । २ प्रहृष्ट, हर्षयुक्त (दे २, ७६, गण्ड) ।

खलगा पुन [दे] १ पत्र, पत्ता । २ पत्र-खल्लय पुट, पत्ते का बना हुआ पुडवा या दोना (सुप्र १, २, २, १६ टी; पिड २१०, वृह १) ।

खलगा पुन [दे] १ पत्र का रक्षण खल्लय करनेवाला चमड़ा, एक प्रकार का जूता (धर्म ३) । २ थैला (उप १०३१ टी) ।

खल्ला स्त्री [दे] चर्म, चमड़ा, खाल (दे २, ६६, पाप्र) ।

खल्लाड देवो खल्लाड (निचू २०) ।

खल्लिआ स्त्री [दे] सकेत (दे २, ७०) ।

खल्लिहड (अप) देवो खल्लाड (हे ४, ३८६) ।

खल्लि स्त्री [दे] सिर का वह चमड़ा, जिममें केश पैदा न होता हो (भावम) ।

खल्लि पु [खल्लि] जिसके सिर पर बाल न हों, गजा, चडला (हे १, ७४, कुमा) ।

खल्लू पु [खल्लू] कन्द-विशेष (परण १—पत्र ३६) ।

खल मक [क्षपय] १ नाश करना । २ डालना, प्रक्षेप करना । ३ उल्लूखन करना । खवेइ (उव), खवयति (भग १८, ७) । कर्म खविज्जति (भग) । वक्र खवेमाण (णया

१५, १४४) । ४ जाने योग्य । ५ भोगने योग्य—स्वपत्नी वगैरह (सुर १२, ५२) ।

गम्म न [गम्य] गमन, 'अगम्मगम्म सुविणोपु वन्' (सुख ८, १३) ।

गम्ममाण देखो गम = गम् ।

गय वि [दे] १ घृणित, अमित, घुमाया गया (दे २, ६६, षड्) । २ मृत, मरा हुआ, निर्जीव (दे २, ६६) ।

गय वि [गत] १ गया हुआ (सुपा ३३४) । २ अतिक्रान्त, युजरा हुआ (दे १, ५६) । ३ विज्ञात, जाना हुआ (गउड) । ४ नष्ट, हत (उप ७२८ टी) । ५ प्राप्त, 'आघईगयमि सुण' (प्रासू ८३, १०७) । ६ स्थित, रहा हुआ, 'मणगय' (उत्त १) । ७ प्रविष्ट, जिसने प्रवेश किया हो (ठा ४, १) । ८ प्रवृत्त (सुप्र १, १, १) । ९ व्यवस्थित (श्रीप) । १० न गति, गमन, 'उसमो गइदमयगलसुललियगय-विककमो भयवं (वसु, सुपा ५७८, आचा) । 'पाण वि [प्राण] मृत, मरा हुआ (आ २७) । 'राय वि [राग] राग-रहित, वीत-राग, निरीह (उप ७२८ टी) । 'वइया, 'वई स्त्री [पतिका] १ विधवा, राह, (श्रीप, पउम २६, ४२) । २ जिसका पति विदेश गया हो वह स्त्री, प्रोपित-भतुं का (गा ३३२, पउम २६ -२) । 'वय वि [वयस्] वृद्ध, बुढ़ा (पाम) । 'णुगाइअ वि [णुगा-तिक] अथ परम्परा का अनुयायी, अन्व-श्रद्धालु (उवर ४६) ।

गय पु [गज] १ हाथी, हस्ती, कुजर (अणु, श्रीप, प्रासू १५४, सुपा ३३५) । २ एक अंतकृत जैन मुनि, गज सुकुमाल मुनि (अन ३) । ३ इस नाम का एक सेठ (उप ७६८ टी) । ४ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २) । 'उर न [पुर] नगर-विशेष, कुह देश का प्रधान नगर, हस्तिनापुर (उप १०५, महा सण) । 'कण, 'कन्न पु [कणे] १ द्वीप-विशेष । २ उसमें रहनेवाला (जीप ३, ठा ४, २) । 'कलभ पुं [कलभ] हाथी का बच्चा (राम) । 'गय नि [गत] हाथी के ऊपर आरुढ़ (श्रीप) । 'गपय पुं [गपय] पर्वत विशेष (आन) । 'त्य वि [त्य] हाथी के ऊपर स्थित (पउम ८, ८६) । 'पुर

देखो 'उर (सूग १, ५, ६) । 'वय पुं [वयधक] हाथी को पकनेवाली जाति (सुपा ६४२) । 'मारिणी स्त्री [मारिणी] वनस्पति-विशेष, शुद्ध विशेष (पण १—पत्र ३२) । 'मुह पुं [मुख] १ गणेश, गणपति, शिव-पुत्र (पाम) । २ यक्ष-विशेष (गण १६) । 'राय पु [राज] प्रधान हाथी, श्रेष्ठ हस्ती (सुपा ३८६) । 'वइ पु [पति] गजेन्द्र, श्रेष्ठ हस्ती (णया १, १६, सुपा २८६) । 'वर पु [वर] प्रधान हाथी । 'वरारि पु [वरारि] सिंह, शार्ङ्ग, वनराज (पउम १७, ७६) । 'वहू स्त्री [वधू] हथिनी, हस्तिनी (पाम) । 'वीही स्त्री [वीथी] शुक वगैरह महाग्रहो का चार-खेन-विशेष (ठा ६) । 'ससण पुं [श्वसन] हाथी की सूँठ (श्रीप) । 'सुकुमाल पु [सुकुमाल] एक प्रसिद्ध जैन मुनि, उसी भव में मुक्ति-गत जैन साधु-विशेष (अत, पठि) । 'रि पु [रि] सिंह, पञ्चानन (अवि) । 'रोह पु [रोह] हस्तिपक, महावत (पाम) ।

गय पु [गद] रोग, विमारी (श्रीप, सुपा ५७८) ।

गयक पु [गजाङ्क] देवों की एक जाति, विक्रुमार देव (श्रीप) ।

गयट पु [गजेन्द्र] श्रेष्ठ हाथी (गउड) ।

गयकठ पु [गजकण्ठ] रत्न-विशेष (राय ६७) । गयकन्न पु [गजकण्ठ] अनायं देश-विशेष (पव २७५) ।

गयगपय न [गजाग्रपद] दशार्णवूट का एक तीर्थ (आचानि ३३२) ।

गयण न [गगन] 'ह' अक्षर (सिदि १६६) । 'मणि पु [मणि] सूर्य (कुप्र ५१) ।

गयण न [गगन] गगन, आकाश, अक्षर (दि २, १६४, गउड) । 'गड पु [गति] एक राजागुमार (दस) । 'चर नि [चर] आफन में चलनेवाला, पत्नी, विद्यावर वगैरह (मुगा २५०) । 'मडल पु [मण्डल] एक राजा (दस) ।

गयणड पु [दे] नेप, नेह, वासन (दि २, ८८) ।

गयण्डु पु [गगनेन्दु] विद्यावर यंत्र के एक राजा का नाम (पउम ५, ६५) ।

गयनिमीलिता स्त्री [गजनिमीलिता] उपा उदासीनता (स ५१) ।

गयमुह पु [गजमुह] अनायं देश-विशेष (पव २७४) ।

गयसाउल } वि [दे] निरक्त, बराने (दि गयसाउल्ल } ८७, षड्) ।

गया स्त्री [गदा] लोहें का या पापल का अन्न-विशेष, लोहें का सुपदर या लाठी (राम) । 'हर पुं [घर] वायुदेव, (उत्त ११) ।

गया स्त्री [गदा] एक देव विमान (दि १३३) ।

गया स्त्री [गदा] स्वनाम-प्रसिद्ध नगर विशार (उप २५१) ।

'गर वि [कर] करनेवाला, बर्ता (पण) ।

गर पु [गर] १ विप विशेष, एक प्रकार का जहर (निवू १) । २ ज्योतिष-शास्त्र प्रसिद्ध ववादि करणों में से एक (चिते ३३५८) ।

'गारण देखो करण (खण ६३) ।

गारल न [गारल] १ विप, जहर (पाम प्रसू ३६) । २ रहस्य । ३ वि. प्रत्यक्त, अन्त 'अ-गरलाए अ-मम्मणए' (श्रीप) ।

गारलिगायद्ध नि [गारलिगायद्ध] निर्दि उपन्यस्त (निवू १) ।

गारह मक [गार्ह] निन्दा करना, पूज करना । गारह गारह (भग) । वा गारह (द्र १५) । कवह गारहिल्लाण (पाम १, ८) । मरु गारहिल्ला (आन २, १२) । हेरु गारहिल्ला (मम, ठा २, १) । ग गारहणिल्ला, गारहणीय, गारहियव्य (पुं १८४, ३७६, पणह २, १) ।

गारहण न [गार्हण] निन्दा, पूजा (दि १३०) । गारहणया } स्त्री [गार्हणा] निन्दा पूजा (प गारहणा } १७, ३, श्रीप, पणह २ १) ।

गारहा स्त्री [गार्हा] निन्दा पूजा (लो) ।

गारहअ नि [गार्हअ] निर्दि. अन्ति (दि ६३, ६३३, मग) ।

'गारिअ वि [गृन] विना हुआ, निर्दि (दि ७, ११) ।

गारिट्ट नि [गारिट्ट] स्त्री उर, वज्र (मुपा १०, १२८ प्रासू १५५) ।

गारम पुत्री [गारिमन] गन्ना, दुग्ध, अन्न (दि १ ५५ मुग २३, १०६) ।

गण-खिखिणिया

अ पाणेषु अ तह गहिरो मडलो अडग्रणाए
(गा ६६२, पत्र १४, १३६)।

गण न [ख्यान] कथन, उक्ति (राज)।

गणि श्री [रानि] खान, आकर (दे २,
६६, कुमा, मुपा ३४८)।

गणिअ नि [रानित] खुदवाया हुआ (हे
३, ५७)।

गणी देवो गणि (पात्र)।

गणु } पु [स्याणु] स्याणु, रूठा वृत्त, अचल
गणुय } (परह २, ५, हे २, ७, कम्)।

गांदि देवो गाड = ख्याति (सक्ति ६)।

गाम नक [क्षमय] खमाना, माफी मागना।

गामइ (भग)। कर्म खामिजइ, खामीअइ
(ह ३, १५३)। सकु खामेत्ता (भग)।

गाम वि [क्षाम] १ कृष, दुर्वल, 'खामप
हुवोन' (उप ६८६ टी, पात्र)। २ क्षीण,
भरक (दे ६, ४६)।

गामण न [क्षमण] खमाना (श्रावक ३६५, १)

गामणा ली [क्षमणा] क्षमापना, माफी
मागना, क्षमा-याचना (मुपा ५६४, विवे
७६)।

गामिअ नि [क्षमित] १ जिसके पाम क्षमा
मागी गई हो वह, क्षमाया हुआ (विने २३८८,
ह २, १५०)। २ सहन किया हुआ। ३
विनम्रित, विलम्ब किया हुआ, 'तिरिएण
अहारता पुण न गामिया मे कयतेण' (पउम
८३, ३१, हे ३, १५०)।

गाम पु [साद] पाचवी नरक-भूमि का एक
नरक-भाग (देवेन्द्र ११)।

गामर दो गो गार (पम ६)।

गाम पु [गार] १ एक नरक न्यान (देवेन्द्र
३) = दुखपरिहार की एक जाति (सूत्र २
३ २०)। २ वर, दुखनी (मुपा १, ३)।
'दाह पुन [दाह] क्षार पतने की नदी
(पाग २, १०, २)। 'नन पुन [तत्र]
पुनरे का ल नेर, बालोत्तर (डा ८—
२२ ८८)।

गाम पु [गार] १ गार, अरना, नानन
(उप ८)। २ गार, गार (गया १, २)।

३ गार, गार, गार (सूत्र १, ७)।

४ गार, गार (ह १, १)। ५ गार-निदेर
(उप १)। ६ गार, गार (सूत्र १, ४, २)।

७ वि कटु या चरपरा स्वादवाला, कटु चीज
(परण १७—पत्र ५३०)। ८ खारी चीज,
नमकीन स्वादवाली वस्तु (भग ७, ६, सूत्र १,
७)। 'तउसी [त्रपुपी] कटु त्रपुपी, वनस्प

ति-विशेष (परण १७)। 'तिल्ल न [तेल]
खारे से संस्कृत तेल (परह २, ५)। 'मेह पुं

[मेघ] क्षार रसवाले पानी की वर्षा (भग ७,
६)। 'वत्तिय वि [पात्रिक] क्षार-पात्र मे

जिमाया हुआ। २ क्षार-पात्र का आधार भूत
(श्रौप)। 'वत्तिय वि [वृत्तिक] खार मे

फेका हुआ, खार से सींचा हुआ (श्रौप, दसा
६)। 'वावी ली [वापी] क्षार से भरी हुई

वापी, कूआ (परह १, १)।

खारफिडी ली [दे] गोधा, गोह, जन्तु-विशेष
(दे २, ७३)।

खारदूसण वि [खारदूपण] खरदूपण का,
खरदूपण-सम्बन्धी (पउम ४५, १५)।

खारय न [दे] मुकुल, कली (दे २, ७३)।

खारायण पु [क्षारायण] १ ऋषि-विशेष।
२ माण्डव्यगोत्र के शाखाभूत एक गोत्र (डा
७)।

खारि ली [खारी] एक प्रकार की नाप, ३४
सेर की तौल (गा ८१२)।

खारिभरी ली [खारिभरी] खारी-परिमित
वस्तु जिसमें अट सके ऐसा पात्र भर दूष देने-

वाली (गा ८१२)।

खारिक न [दे] फल-विशेष, छुहारा (सिरि
११६)।

खारिय वि [श्रारित] १ आवित, अराया
हुआ (वव ६)। २ पानी में घिसा हुआ
(भवि)।

गारी देवो गारि (गा ८१२, जो १)।

गारुणिय पु [क्षारुणिक] १ स्नेच्छ देश-
विशेष। २ उममे रहनेवाली स्नेच्छ जाति
(भग १०, २)।

गारोदा ली [जारोदा] नदी-विशेष (राज)।

गाल मक [क्षालय] घोंघा, पधारना, पानी
में माक धरना। कृ खालणिज (उप ३२६)।

गाल गोन [दे] नाला, मोरि, गदगी निकलने
का मार्ग (डा २, ३) श्री गाला (कुमा)।

गालग न [क्षालन] प्रशानन, पधारना (मुपा
३२८)।

खालिअ वि [क्षालित] धौत, धोया हुआ
(ती १३)।

खावण न [ख्यापन] प्रतिपादन (पचा १०,
७)।

खावणा ली [ख्यापना] प्रसिद्धि, प्रकथन,
'अक्खाण खावणाविहाण वा' (विसे)।

खाविय न वि [खाद्यमान] जिसको खिलाया
जाता हो वह, 'काणणिमसाइ खावियत'

(विपा १, २—पत्र २४)।

खावियग वि [खादितक] जिसको खिलाया
'गया हो वह, 'काणणिमसखावियग' (श्रौप)।

खावेत वि [ख्यापयत्] प्रख्याति करता
हुआ, प्रसिद्धि करता हुआ (उप ८३३ टी)।

खास अक [काम्] खांसना, खांसी खाना।
खासई (तदु १६)।

खास पु [कास] रोग विशेष, खांसी की
बीमारी, खांसी (विपा १, १, मुपा ४०४,
सण)।

खासि वि [कासिन्] खांसी का रोगवाला
(मुपा ५७६)।

खासिअ न [कासित] खांसी, खांसना (हे १,
१८१)।

खासिअ पु [खासिक] १ स्नेच्छ देश विशेष।
२ उसमे रहनेवाली स्नेच्छ जाति (परह १,
१—पत्र १४, इक, सूत्र १, ५, १)।

खि अक [क्षि] क्षीण होना। कर्म 'खिज्जइ
भवसतती' (स ६८४)। खीयति, खीयते
(कम्म ६, ६६, टी)।

खिइ ली [क्षिति] धृतिवी, धरा (पउम २०,
१५६, स ४१६)। 'गोयर पु [गोचर]
मनुष्य, मानुष, आदमी (पउम ५३, ४३)।

'पड्डु न [प्रतिष्ठ] नगर-विशेष (स ६)।

'पड्डुट्टेय न [प्रतिष्ठित] १ इस नाम का
एक नगर (उप ३२० टी, स ७)। २ राजगृह
नाम का नगर, जो आजकल बिहार में 'राज-
गिर' नाम में प्रसिद्ध है (ती १०)। 'सार
पु [सार] इस नाम का एक दुर्ग (पउम
८०, ३)।

खिर अक [सिद्धय] खिलि आवाज करना।
खिखेइ। वृद्ध खिखियत (मुख २, ३३)।

खिखिणिया ली [खिखिणिका] क्षुद्र घण्टिका
(उवा)।

गहण्णोड पु [दे] डमरुक, वाद्य-विशेष (दे २, ८६) ।

गहल्लरण न [दे] मांस खाते हुए कुपित शेर की गर्जना (माल ६०) ।

गह्लोल न [दे] गडुक, पात्र-विशेष (निचू १) ।

गव पुंल्ली [गो] पशु, जानवर (सूत्र १, २, ३) ।

गवक्ख पु [गवाक्ख] १ गवाक्ष, वातायन, झरोखा (श्रौप, परह २, ४) । २ गवाक्ष के आकृति का रत्न विशेष (जीव ३) । °जाल न [°जाल] १ रत्न-विशेष का ढेर (जीव ३, राय) । २ जालीवाला वातायन (श्रौप) ।

गवच्छ पुं [दे] आच्छादन, ढकना (राय) ।

गवच्छिय वि [दे] आच्छादित, ढका हुआ (राय, जीव ३) ।

गवत्त न [दे] घास, तृण (दे २, ८५) ।

गवत्थिय देखो गवच्छिय (पउमच० ४१—५) ।

गवय पु [गवय] गो की आकृति का जगली पशु-विशेष, नील गाय (परह १, १) ।

गवर पु [दे] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३४) ।

गवल पु [गवल] १ जगली पशु विशेष, जंगली महिप (पउम ८८, ६) । २ न महिप का सिंग (परण १७, सुपा ६२) ।

गवा ली [गो] गैया, गाय (पउम ८०, १३) ।

गवादर्णी देखो गवायणी (आचा २, १०, २) ।

गवायणी ली [गवादनी] गोचर-भूमि (दे २, ८२) ।

गवार वि [दे] गँवार, छोटे गाव का निवासी (वजा ४) ।

गवाालय न [गवालीक] गौ के विषय में अनृत भाषण (परह १, २) ।

गविअ वि [दे] अव्युत, निश्चित (पड्) ।

गविट्ट वि [गवेपित] खोजा हुआ (सुपा १५४, ६४०, स ४८४, पात्र) ।

गविल न [दे] उत्तम कोटि की चीनी, शुद्ध मिली (उर ५, ६) ।

गवेधुआ ली [गवेधुका] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप्प) ।

गवेलग पुंली [गवेलक] १ नेप, मेड (गाया १, १, श्रौप) । २ गौ की मेड (ठा ७) ।

गवेस सक [गवेपय्] गवेपणा करना, खोजना, तलाश करना । गवेसइ (महा, पड्) ।

भूका गवेसित्वा (आचा) । चक्र. गवेसत, गवेसयंत, गवेसमाण (आ १२, सुपा ४१०, सुर १, २०२, गाया १, ४) । हेहू गवेसित्तए (कप्प) ।

गवेसइत्तु वि [गवेपयित्] खोज करनेवाला, गवेपक (ठा ४, २) ।

गवेसग वि [गवेपक] ऊपर देखो (उप पृ ३३) ।

गवेसण न [गवेषण] खोज, अन्वेषण (श्रौप, सुर ४, १४३) ।

गवेसणया ली [गवेपणा] ईहा-ज्ञान, सभा-वना ज्ञान (एदि १७४) ।

गवेसणया } ली [गवेपणा] १ खोज, अन्वे-
गवेसणा } षण (श्रौप, सुपा २३३) । २

शुद्ध भिक्षा की याचना (श्रौप ३) । ३ भिक्षा का ग्रहण (ठा ३, ४) ।

गवेमय देखो गवेसग (भवि) ।

गवेसाविद्य वि [गवेपित] १ दूसरे से खोज-वाया हुआ, दूसरे द्वारा खोज किया गया (स २०७, श्रौप ६२२ टी) । २ गवेपित, अन्वे-पित, खोजा हुआ (स ६८) ।

गवेसि वि [गवेपिन्] खोज करनेवाला, गवेपक (पुष्क ४४०) ।

गवेसिअ वि [गवेपित] अन्वेपित, खोजा हुआ (सुर १५, १२६) ।

गव्व पु [गर्व] मान, अहंकार, अभिमान (भग १५, पव २१६) ।

गव्वर न [गह्वर] कोटर, गुहा (स ३६३) ।

गव्वि वि [गर्विन्] अभिमानो, गर्व-युक्त (आ १२, दे ७, ६१) ।

गव्विट्ट वि [गर्विट्ट] विशेष अभिमानो, गर्व करनेवाला (दे १, १२८) ।

गव्विय वि [गर्वित] गर्व-युक्त, जिनको अभि-मान उपज हुआ हो वह (पात्र, सुपा २७०) ।

गव्विर वि [गर्विन्] अहंकारी, अभिमानो (दे २, १५६, हेवा ४५) । ली °री (हिता ४५) ।

गस सक [गस] पाना, निगाना, भरना करना । गसइ (दे ४, २०४, पड्) । चक्र

गसंत (उप ३२० टी) ।

गसण न [गसण] भरना, निगाना (न ३५७) ।

गसिअ वि [गसत्] भक्षित, निगानित (कुमा, सुर ६, ६०, सुपा ४८६) ।

गह सक [ग्रह्] ग्रहणा, गठना । ग्हेति (सूमनि १४०) ।

गह सक [ग्रह्] १ ग्रहण करना, नेना । २ जानना । ग्हेइ (सण) । चक्र गहत (आ २७) । सक गहाय, गहिअ, गहिउण, गहिया, गहेउ (पि ४६१, नाट, पि ५८६, सूत्र १, ४, १, ५, २) । क गहीअअ, गहेअअव (रयण ७०, मग) ।

गह पु [ग्रह] १ ग्रहण, आदान, म्योकार (विसे ३७१, सुर ३, ६२) । २ सूप, चन्द्र वगैरह ज्योतिष्क-देव (गउड, परह १, २) । ३ कर्म का बन्व (दम ४) । ४ भूत संकल का आक्रमण, आवेश (कुमा, सुर २, १४४) । ५ गृष्टि, आसक्ति, तल्लीनता (आचा) । ६ सगीत का रस-विशेष (दम २) । °गोभ पुं [°शोभ] राक्षस वंश के एक राजा का नाम, एक लक्ष्य (पउम ५, २६६) । °गजिय न [°गजित] ग्रहों के संचार में होनेवाली आवाज (जीव ३) । °गहिय वि [°गह्यीन] भूतादि में आक्रान्त, पागल (कुमा, सुर २, १४४) । °चरिय न [°चरित] १ ज्योतिष शास्त्र (वव ४) । २ ज्योतिष-शास्त्र का फलन (सम ८३) । °दड पु [°दण्ड] दण्डकार ग्रह-पंक्ति (भा ३, ७) । °नाह पु [°नाथ] १ सूर्य, सूरज (आ २८) । २ चन्द्र, चन्द्रन (उप ७२८ टी) । °मुसल न [°मुसल] मुसलाकार ग्रह पंक्ति (नीम ३) । °निगटन न [°श्ट्रिडाटक] १ पानी-पत्र के पत्रवाली ग्रहपंक्ति (भा ३, ७) । २ कृत्तिका, ग्रह की जाड़ी (जीव ३) । °हिय पु [°हिय] सूर्य, सूरज (आ २८) ।

गह पु [ग्रह] १ सव्य (धर्म ३६३) । २ परत, परना (सूत्र १, ३, २, ११, धर्म ७२) । ३ ग्रहण, ज्ञान (धर्म ३६६) । °भिन्न न [°भिन्न] विभक्त होने का भाषण हो कर भाषण (उप १) । °मन पु [°सम] देव काव्य या एक मंत्र (एदि २३) ।

१)। ० न वाट्ठा गुण—व्यानक (नम २६)।
 'राम वि [°राम] १ वीतराम, राम-रहित।
 २ पु निराम, वीरकर देन (गस्य १)।
 शौरमाग वि [शौरमाग] जिमना क्षय
 गण जना न वह (गा ६८६ टी)।
 शौर [°शौर] वेला, दो दिन का उपनाम
 (मंगय ५८)। °डिडिर पु [°डिडिर]
 देमिण (गुम ७६)। °डिडिरा स्त्री
 [°डिडिरा] देवी-विशेष (कुप्र ७६)। °वर
 पु [°वर] १ समुद्र विशेष। २ हीर विशेष
 (मुप्र १६)।
 शौर न [°शौर] १ दुग्ध, दूध (ह २, १७,
 गप्र १६८)। २ पानी, जल (ह २,
 १७)। ३ पु शौरवर समुद्र का अधिष्ठात्यक
 द्य (जोय २)। ४ समुद्र विशेष, शौर-समुद्र
 (पटम ६६ १८)। कयव पु [°कयव]
 न गण गणक ब्राह्मण-समाख्याय (पटम
 २१, ६)। °काओला स्त्री [°काओला]
 मन्त्रिण विशेष, शौरविदागे (परण १)।
 °नर पु [°नर] शौर समुद्र, समुद्र-विशेष
 (शौर)। °जलनिधि पु [°जलनिधि] बही
 शौर घर्म (मुपा २६५)। °द्रुम, °द्रुम पु
 [°द्रुम] दूधपाना पेठ, जिममे दूध निकलता
 २ पु दूध की जाति (मोप ३८६ निर
 १)। °धाट्ठा [°धाट्ठा] दूध पिजानेवाली
 २ पु (गा १, १)। °पर पु [°पर]

शौरा (२ र) इया बद्धफला (गाया १, ७)।
 शौरि वि [°शौरि] १ दूधवाला। २ पु
 जिममे दूध निकलता है ऐसे बृक्ष की जाति
 (उप १०३१ टी)।
 शौरिउज्जमाग वि [°शौरिउज्जमाग] जिमका
 बोहन किया जाता हो वह (भाचा २,
 १, ४)।
 शौरिणी स्त्री [°शौरिणी] १ दूधवाली (भाचा
 २, १, ४)। २ वृक्ष-विशेष (परण १—
 पत्र ३१)।
 शौरि स्त्री [°शौरि] शौर, पकान-विशेष
 (मुपा ६३६, पाप्र)।
 शौरिअ पु [°शौरिअ] समुद्र-विशेष, शौर-
 मागर (ह २, १८२, गा ११७, गस्य उप
 ५३० टी, स ३४४)।
 शौरिआ स्त्री [°शौरिआ] इम नाम की एक
 नदी (इक ठा २, ३)।
 शौरिदेवो शौरिअ (ठा ७)।
 शौरिदक पु [°शौरिदक] शौर-सागर
 शौरिदय (गाया १, ८, शौप)।
 शौरिदेवो देवो शौरिआ (ठा ३, ४—पत्र
 १६१)।
 शौरि पु [°शौरि] शौरि, शौरि, शौरि,
 शौरि (स १०६, सूय १, ११, हे
 १, १८१, कुमा)। °मग पु
 [°मग] मार्ग-विशेष, जहा घनी ज्यादा

शुद्ध स्त्री [°शुद्धि] १ स्त्रीक। २ स्त्रीक का
 निशान (गाया १, १६, भग ३, १)।
 शुद्धि वि [°शुद्धि] १ विच्छिन्न। २ विध्यात,
 शान्त, 'शुद्ध्या चिया' (कुप्र १४०)।
 शुद्धिपु पु [°शुद्धि] नाक का छिद्र (दे २, ७६,
 पाप्र)।
 शुद्धिणी स्त्री [°शुद्धि] रथ्या, मुहला (दे २, ७६)।
 शुद्धिह पु [°शुद्धि] शय की एक उत्तम जाति
 (सम्मत् २१६)।
 शुद्ध पु [°शुद्ध] शूट, शूटी। °मोडय वि
 [°मोडय] १ शूटे की मोडनेवाला, उससे
 शूटकर भाग जानेवाला। २ पु इस नाम का
 एक हाथी (नाट—मुच्छ ८४)।
 शुद्धय वि [°शुद्धय] स्वलित, स्वलना-प्राप्त (दे
 २, ७१)।
 शुद्ध (शौ) सक [°शुद्ध] १ जाना। २ पीसना,
 कूटना। शु ददि (प्राक ६३)।
 शुद्ध अक [°शुद्ध] मूख लगना। शु दह
 (प्राक ६६)।
 शुद्धा स्त्री [°शुद्धा] वृष्टि को रोकने के लिए बनाया
 जाता एक तृणमय उपकरण (दे २, ७५)।
 शुद्धि वि [°शुद्धि] शोभ उपजानेवाला
 (परह १, १—पत्र २३)।
 शुद्ध अक [°शुद्ध + अस्] १ फेंकना। २
 निराम करना। शुद्ध (प्राक ७२)।

गाढ वि [गाढ] १ गाढ, निविड, सान्द्र (पात्र, सुर १४, ४८)। २ मजबूत, दृढ (सुर ४, २३७)। ३ क्लिबि, अत्यन्त, अतिशय (कम्प)।
 गाण न [गान] गीत, गाना (हे ४, ६)।
 गाण वि [गायन] गवैया, गीत-प्रवीण (दे २, १०८)।
 गाणगणिअ पु [गाणगणिक] छ ही मास के भीतर एक साधु-गण से दूसरे गण में जानेवाला साधु (बृह १)।
 गाणी स्त्री [दे] गवादनी, गोचर-भूमि (दे २, ८२)।
 गाथा देखो गाहा (भग, पिंग)।
 गाघ वि [गाघ] अस्ताघ-रहित, कम गहरा (दे ५, २४)।
 गाम पुं [ग्राम] १ समूह, निकर, 'चवलो इदियगामो' (सुर २, १३८)। २ प्राणि-समूह, जन्तु-निकर (विसे २८६६)। ३ गाँव, बसति, ग्राम (कम्प, छाया १, १८, श्रौप)। ४ इन्द्रिय-समूह (भग, श्रौप)। ५ कडग, कडय पु [कण्टक] १ इन्द्रिय-समूह ह्य कौटा (भग, श्रौप)। २ दुर्जनों का रक्ष आलाप, गाली (आचा)। ३ धायग वि [घातरु] गाँव का नाश करनेवाला (परह १, ३)। ४ जिद्धमण न [निर्धमन] गाँव का पानी जाने का रास्ता, नाला (कम्प)। ५ धम्म पुं [धर्म] १ विषयाभिलाष, विषय की वाञ्छा (ठा १०)। २ इन्द्रियो का स्वभाव। ३ विषय-प्रवृत्ति (आचा)। ४ मैथुन (सूत्र १, २, २)। ५ शब्द, ह्य वगैरह इन्द्रियो का विषय (परह १, ४)। ६ गाव का धर्म, गाँव का कर्तव्य (ठा १०)। ७ छ पुन [धि] आघा गाँव। २ उत्तर भारत, भारत का उत्तरप्रदेश (निच १२)। ८ मारी स्त्री [मारी] गाव भर में फेनी हुई बीमारी-विशेष (जीव ३)। ९ रोग पु [रोग] ग्राम-न्यायक बीमारी (ज २)। १० वड पु [पति] गाँव का मुखिया (पात्र)। ११ गुग्गाम न [गुग्गाम] एक गाँव में दूसरे गाँव (श्रौप)। १२ गार पु [गार] विषय (भावम)।
 गामउड } पुं [दे] गाँव का मुखिया (दे २, गामऊड } ८६, बृह ३)।
 गामातय न [ग्रामान्तिक] १ गाँव की सीमा

(आचा)। २ वि गाँव की सीमा में रहनेवाला (वसा १)। ३ पु जैनेतर दार्शनिक विशेष (सूत्र २, २)।
 गामगोह पुं [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६)।
 गामड पु [ग्रामक] गाँव, छोटा गाँव (आ १६)।
 गामण न [दे गमन] भूमि में गमन, भू-संपर्क (भग ११, ११)।
 गामणह न [दे] ग्राम-स्थान, ग्राम-प्रदेश (पड्)।
 गामणि देखो गामणी (दे २, ८६, पड्)।
 गामणिसुअ पु [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६)।
 गामणी पु [दे] गाँव का मुखिया (दे २, ८६, ग्रामा)।
 गामणी वि [ग्रामणी] १ श्रेष्ठ, प्रधान, नायक (से ७, ६०, घण १, गा ४४६, पड्)। २ पुं वृण-विशेष (दे २, ११२)।
 गामपिंडोलग पु [दे] शील से पेट भरने के लिये गाँव का आश्रय लेनेवाला शीखारी (आचा)।
 गामरोड पु [दे] छन से गाँव का मुखिया बन बैठनेवाला, गाँव के लोगों में फूट उत्पन्न कर गाँव का मालिक होनेवाला (दे २, ६०)।
 गामहण न [दे] ग्राम-स्थान, गाँव का प्रदेश (दे २, ६०)। २ छोटा गाँव (पात्र)।
 गामाग पुं [ग्रामाक] ग्राम-विशेष, इस नाम का एक सन्निवेश (भावम)।
 गामार वि [दे. ग्रामीण] ग्रामीण, छोटे गाँव का रहनेवाला (वत्ता ४)।
 गामि वि [गामिन्] जनेवाना (गा १६७, आचा)। स्त्री 'णी' (कम्प)।
 गामिअ वि [ग्रामिक] १ देवो गामिह (दे २, १००)। २ ग्राम का मुखिया (निच २)। ३ विषयाभिनायो (आचा)।
 गामिणिआ स्त्री [गामिनिआ] गमन करने-वाली स्त्री, 'लनिमहंभवद्गामिणिमाहि' (पजि २६)।
 गामिह } वि [ग्रामीण] गाँव का गामिल्लुअ } निवास, गार, (पवन ७७, गामीग } १०८, विसे १ टो, दे ८, ४७)। स्त्री 'ष्टी' (कुमा)।

गामुअ वि [गामुक] जनेवाला (स १७१)।
 गामेइआ स्त्री [ग्रामेगिका] गाँव की रूने वाली स्त्री, गँवार स्त्री (गउड)।
 गामेणी स्त्री [दे] छापी, भजा, बचरी (दे २, ८४)।
 गामेय देखो गामेयग (धमनि १२७)।
 गामेयग वि [ग्रामेयक] गाँव का निवासी, गँवार (बृह १)।
 गामेरेड [दे] देखो गामरोड (पड्)।
 गामेलुअ } देवो गामिह (पुत्र २७५, गामेह } विषा १, १, विसे १४११)।
 गामेस पुं [ग्रामेश] गाँव का अधिकारी (दे २, ३७)।
 गायण वि [गायन] गवैया, गायन (निं ७०१)।
 गायरी स्त्री [दे] गरी, गरी, कनकी, छ घडा (दे २, ८६)।
 गार वि [कार] कारक, कर्ता (भवि)।
 गार पु [दे ग्रान्] पत्थर, पाषाण, पत् (वव ४)।
 गार न [अगार] गृह, घर, मरान (ठा ६, 'त्य पुत्री [र्य] गृहस्य, गृही (निच १, 'स्थिय पुत्री [स्थित] गृहस्य, गृही, घा 'गारस्थियजणउच्चय भासासामिपो १ भासि (पुष्प १८१, ठा ६)।
 गारय वि [कारक] कर्ता, करनेवाला (१५१)।
 गारव पुन [गौरव] १ अतिमान, महान् २ अभिलाष, मानसा 'तपो गारवा का (ठा ३, ४, आ ३५, सा ८)। ३ पु गुप्त, प्रभाव (पुना)। ४ गार, म (पड्, प्राप्र)।
 गारविन वि [गौरविन] १ गौरव मन्त्रवादी। २ गौरी, अतिमान का नामासमाना, अतिनायो (सूत्र १, १, गारविह वि [गौरवय] उत्तर (पन्ना १, ४६)।
 गारह्वरि वि [गार्ह्वरि] गार्ह्व-मन्त्र-कौ का (पा ३३५)।
 गारि पुं स्त्री [अगारि] गौरी, गन्धरी, (ठा २, १६)।

सुन पु [क्षुप] जिसकी शाखा ओर मूल छोटे होने हैं ऐसा वृक्ष (शाखा १, १—पत्र ६५)।
सुनय पु [टे] वृण-विशेष, कण्टक-वृण, कंदोला घान (दि २, ७५)।

सुन्य देवो सुभ। सुव्यद (पड)।
सुन्य न [टे] पत्ते का पुडवा, दोना (वच २)।

सुह देवो सुभ। कृ सुहियव्य (सुपा ६१६)।
सुहा श्री [क्षुध] भूख, वृष्टुका (महा, प्राप् १७३)। °परिसह, °परीसह पु [परिपह, °परीपह] भूख की वेदना को शान्ति में महन करना (उत्त २, पचा १)।
सुहिय नि [क्षुभित] १ क्षोभ-प्राप्त (से १, ६६, सुपा २४१)। २ क्षोभ, सत्रास (श्रीध ७)।

सुण न [क्षुग] नुकसान, हानि (सुर ४, ११३, महा)। २ अपराध, गुनाह (महा)। ३ न्यूनता कमी (सुपा ७, ४३०)।

सुध अर [खेदय] खिन करना, खेद उरगाना। खेद (विसे १४७२, महा)।

सुध पु [सिध] १ खेद, उद्वेग, शोक (उप ७२८ टी)। २ तकलीफ, परिश्रम (स ३१५)। ३ मयम निरति (उत्त १५)। ४ थकावट, श्रान्ति (प्राप्ता)। °ण्ण, °न्न वि [°ज्ञ] निपुण, तुशल, चतुर, जानकार (उप ६०८, श्रीध ६४७)।

सुध देवा सुध (सूम १, ६, आचा)।

सुध पु [सुध] श्याम, मोचन (से १२, ८८)।

सुध न [सुधन] १ खेद, उद्वेग। २ विवेक उरगाना (पुमा)।

सुध देवा सुध (सुमा, सुर ३, ६)। °हिध पु [°धिप] निचावरो का राजा (पउम २८, ३७)। °हिध पु [°धिपति] निचावरो का राजा (पउम २८, ४४)।

सुध पु [सुधवेन्द्र] नेचरो का राजा (पउम २, १०)।

सुध न [सुध] १ खेद, उद्वेग। २ विवेक उरगाना (पुमा)।

सुध पु [सुध] १ खेद, उद्वेग। २ विवेक उरगाना (पुमा)।

सुध पु [सुध] १ खेद, उद्वेग। २ विवेक उरगाना (पुमा)।

खेचर देवो खेअर (ठा ३, १)।
खेज्जणा श्री [खेडना] खेद-सूचक वाणी, खेद (शाया १, १८)।

खेड सक [कृप्] खेती करना, चास करना।
खेडइ (सुपा २७६), 'अह अन्नया य दुन्निवि ह्लाह खेडति अण्णान्नेव' (सुपा २३७)।

खेड सक [खेटय] हाकना। खेडए (वेइय ३३७, कुम ७१)।

खेड न [खेट] १ धूलो का प्राकारवाला नगर (श्रीध, पएह १, २)। २ नदी और पर्वतो से वेष्टित नगर (सूत्र २, २)। ३ पु भृगया, शिकार (भवि)।

खेडग न [खेटक] फलक, ढाल (पएह १, ३)।

खेडण न [कृपण] खेती करना (सुपा २३७)।

खेडग न [खेटन] खेडना, पीछे हटाना (उप २२६)।

खेडणअ न [खेलनरु] खिलौना (नाट—रत्ना ६२)।

खेडय पु [स्वेटक] १ विष, जहर (हे २, ६)। २ ज्वर-विशेष (कुमा)।

खेडय वि [स्फेटरु] नाशक, नाश करनेवाला (हे २, ६, कुमा)।

खेडय न [खेटरु] छोटा गांव (पाम्र, सुर २, १६२)।

खेडावग वि [खेलरु] खेल करनेवाला, तमासगिर (उप ४ १८८)।

खेडिअ नि [कृष्ट] हल में विदारित (दे १, १३६)।

खेडिअ पु [रफेटिक] १ नाशवाला, नधर। २ अनादरवाला (हे २, ६)।

खेडु अक [रम्] क्रीडाकरना, खेल करना।
खेडु (हे ४, १६८)। खेडुति (कुमा)।

खेडु न [खेल] १ क्रीडा, खेल, तमाशा, खेडुय } मजा (हे २, १७८, महा, सुपा २७ न १०६)। २ बहाना, छल, मय-सुध निहकण (सुपा ५२३)।

खेडु श्री [नीटा] क्रीडा, खेल, तमाशा (श्रीध, पउम ८, ३७, गन्ध २)।

खेडु श्री [रु] मार्ग, रफा, 'भद'। पच्छिमा नोडिया (म ८८)।

खेडु पु [नेत्र] १ आराज (विने २०८८)।

२ कृषि भूमि, खेत (बृह १)। ३ जमीन, भूमि। ४ देश, गांव, नगर वगैरह स्थान (कप्प, पंचू, विसे)। ५ भार्या, स्त्री (ठा १०)। °कटप पु [°कल्प] १ देश का रिवाज (बृह ६)। २ क्षेत्र-सवन्धी अनुष्ठान। ३ ग्रन्थ-विशेष, जिसमें क्षेत्र-विषयक आचार का प्रतिपादन हो (पञ्च)। °पलिओचम न [°पत्योपम] काल का नाप-विशेष (आणु)। °रिय पु [°र्य] आर्य भूमि में उत्पन्न मनुष्य (पराण १)। देवो खित्त = क्षेत्र।

खेत्तय पु [क्षेत्रक] राहु (सुज २०)।

खेत्ति वि [क्षेत्रिन] क्षेत्रवाला, क्षेत्र का स्वामी (विसे १४६२)।

खेम न [क्षेम] १ कुशल, कल्याण, हित (पउम ६५, १७, गा ४६६, भत्त ३६, रयण ६)। २ प्राप्त वस्तु का परिपालन (शाया १, ५)। ३ वि कुशलता-युक्त, हितकर, उपद्रव-रहित (शाया १, १, दस ७)। ४ पु पाटलिपुत्र के राजा जितशत्रु का एक अमात्य (आचू १)। °पुरी श्री [°पुरी] १ नगरी-विशेष (पउम २०, ७)। २ विदेह-वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३)।

खेमर पु [क्षेमरु] १ कुलकर पुरुष-विशेष (पउम ३, ५२)। २ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ कुलकर-पुरुष (सम १५३)। ३ ग्रह-विशेष अहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३)। ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पउम २१, ८०)। ५ वि कल्याण-कारक, हित-जनक (उप २११ टी)।

खेमर पु [क्षेमरु] १ कुलकर पुरुष-विशेष (पउम ३, ५२)। २ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ कुलकर-पुरुष (सम १५३)। ३ ग्रह-विशेष अहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३)। ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पउम २१, ८०)। ५ वि कल्याण-कारक, हित-जनक (उप २११ टी)।

खेमधर पु [क्षेमन्वर] १ कुलकर पुरुष-विशेष (पउम ३, ५२) ऐरवत क्षेत्र का पाचवां कुलकर पुरुष-विशेष (सम १५३)। ३ वि. क्षेमन्धारक, उपद्रव-रहित (राज)।

खेमर पु [क्षेमरु] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्तर्द्व जैनमुनि (अत)।

खेमराथ पु [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का एक पूर्व पुरुष (कुम्र ५)।

खेमरालिज्या श्री [क्षेमलिजा] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप्प)।

खेमा श्री [क्षमा] १ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३)। २ अमपुरी-नामक नगरी-विशेष (पउम २०, १०)।

खेमर पु [क्षेमरु] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्तर्द्व जैनमुनि (अत)।

खेमराथ पु [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का एक पूर्व पुरुष (कुम्र ५)।

खेमरालिज्या श्री [क्षेमलिजा] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप्प)।

खेमा श्री [क्षमा] १ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३)। २ अमपुरी-नामक नगरी-विशेष (पउम २०, १०)।

खेमर पु [क्षेमरु] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्तर्द्व जैनमुनि (अत)।

खेमराथ पु [क्षेमराज] राजा कुमारपाल का एक पूर्व पुरुष (कुम्र ५)।

खेमरालिज्या श्री [क्षेमलिजा] जैनमुनि-गण की एक शाखा (कप्प)।

खेमा श्री [क्षमा] १ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३)। २ अमपुरी-नामक नगरी-विशेष (पउम २०, १०)।

खेमर पु [क्षेमरु] स्वनाम-प्रसिद्ध एक अन्तर्द्व जैनमुनि (अत)।

गिण देखो गण = गणय् । गिणति (सङ्घि ६७) ।

गिण्ह देखो गह = ग्रह् । गिण्हइ (कप्प) । वक्क गिण्हत, गिण्हमाण (सुपा ६१६, १, १) । सक्क गिण्हइ, गिण्हि-ऊण, गिण्हित्ता (पि ५७४, ५८५, ५८२) । हेक्क गिण्हित्ताए (कप्प) । क्क गिण्हियच्च, गिण्हियच्च (अणु, सुपा ५१३) ।

गिण्हण देखो गहण = ग्रहण (सिदि ३४७, पिड ४५६, तटु ५०) ।

गिण्हणा छी [ग्रहण] उपादान, आदान (उत्त १६, २७) ।

गिण्हविअ वि [ग्राहित] ग्रहण करायो हुआ (धर्मवि ११६) ।

गिद्ध पुं [गृध्र] पक्षि-विशेष, गोघ (पाम्र, १, १६) ।

गिद्ध वि [गृध्र] आसक्त, लम्पट, लोचुप (परह १, २, आच्छ ३) ।

गिद्धपिट्ट न [गृध्र स्पृष्ट, गृध्रपृष्ट] मरण-विशेष, आत्महत्या के अभिप्राय से गोघ आदि को अपना शरीर खिला देना (पव १५७) ।

गिद्धि छी [गृद्धि] एक देव-विमान (दिवेन्द्र १३४) ।

गिद्धि छी [गृद्धि] आसक्ति, लम्पटता, गाव्यं (सुप्र १, ६) ।

गिन्हणा देखो गिण्हणा (उत्त १६, २७) ।

गिह्व पु [ग्रीष्म] ऋतु-विशेष, गरमी का मौसिम (हे २ ७४, प्राप्र) ।

गिह्वा छी देखो गिह्व, 'गिह्वासु' (मुत्त २, ३७) ।

गिर नक् [गृ] १ बोलना, उच्चारण करना । २ गिलना, निगलना । गिरइ (पड्) ।

गिरा छी [गिर्] बारी, भापा, वाक् (हे १, १६) ।

गिरि पु [गिरि] १ पहाड, पर्वत (गउड, १, २३) । २ अडी छी [तटी] पर्वतीय नदी (गउड) । ३ कण्णई, ऋणी छी [कर्णी] बल्ली-विशेष, सत्ता विशेष (परण १—पत्र ३३, आ २०) । ४ कूड न [कूट] १ पर्वत का शिखर । २ पुं रामचन्द्र का महल (पउम ८०, ५) । ३ लण्ण पु [चङ्ग]

कोकण देश मे वर्षाकाल मे किया जाता एक प्रकार का उत्सव (बृह १) । ४ णर्डे छी [नदी] पर्वतीय नदी (पि ३८५) । ५ णाल पु [नार] प्रसिद्ध पर्वत विशेष, जो काठियावाड मे आजकल भी 'गिरनार' के नाम से विख्यात है (श्री ३) । ६ णारिणी छी [दारिणी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) । ७ नई देखो णई (सुपा ६३५) । ८ पम्पटण न [प्रस्कन्दन] पहाड पर मे गिरना (निचू ११) । ९ यडय न [कटक] पर्वत का मध्य भाग (गउड) । १० पन्भार पु [प्राग्भार] पर्वत-नितम्ब (सथा) । ११ राय पु [राज] मेरु पर्वत (इक) । १२ वर पु [वर] प्रवान पर्वत, उत्तम पहाड (सुपा १७६) । १३ वरिद पु [वरेन्द्र] मेरु पर्वत (आ २७) । १४ सुआ छी [सुता] पार्वती, गौरी (पिग) ।

गिरि पु [दे] वीज-कोश (दि ६, १४८) ।

गिरिद पु [गिरीन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत । २ मेरु पर्वत । ३ हिमाचल (कप्प) ।

गिरिकुञ्जी देखो गिरि-कण्णी (पव ४) ।

गिरिडी छी [दे] पशुओ के दाँत को बांधने का उपकरण-विशेष, 'दतगिरिडि पवघड' (सुपा २३७) ।

गिरिनयर न [गिरिनगर] गिरनार पर्वत के नीचे का नगर, जो आजकल 'जूनागड' के नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७६) ।

गिरिफुल्लिय न [गिरिफुल्लित] नगर-विशेष (पिड ४६१) ।

गिरिस पु [गिरिश] महादेव, शिव (पाम्र, ६, १२१) । २ वास पु [वास] वैनाश पर्वत (सि ६, ७५) ।

गिरीस पु [गिरीश] १ हिमानय पर्वत । २ महादेव, शिव (पिग) ।

गिल सक [गृ] गिनना, निगनना, भनण करना । सक्क गिलिऊण (नाट) ।

गिलण न [गरण] निारण, भणण (हे ४, ४५५) ।

गिला } धन [गले] १ ग्लान होना, बीमार
गिलाअ } होना । २ गिल होना, पत जाना ।
३ उदासीन होना । गिनाइ, गिनापर, गिना-एनि (भक्त-कम-आना) । ४ गह, गिनायमाण (ठा ३, ३) ।

गिला छी [ग्लानि] १ बीमारी, रोग । २ वेद, यकावट (ठा ८) ।

गिलाण देखो गिलाअ, 'गिनाएइ कम्' (स ७१७) ।

गिलाण वि [ग्लान] १ बीमार, रोगी (सू १, ३, ३) । २ अशक्त, प्रथमयं, पत्ता ह्ण (ठा ३, ४) । ३ उदासीन, ह्य-रहित (पल १, १३, हे २, १०६) ।

गिलाणि छी [ग्लानि] ग्लानि, वेद, यकावट (ठा ५, १) ।

गिलायय वि [ग्लायक] ग्लानि-मुक्त गल (श्रोप) ।

गिलासि पुछी [ग्रासिन्] व्याधि-रहित भक्तक रोग (आचा) । छी 'गी (आचा) ।

गिलिअ वि [गिलित] निगना हुआ, भंग (सुपा ३, २०६, सुपा ६४०) ।

गिलिअउत वि [गिलिनयत्] निगन भनण किया हो वह (पि ५६६) ।

गिलोइया } छी [दे] गृह गोपा, धिताने
गिलोई } (सुपा ६४०, पुष्क २६७) ।

गिल्लि छी [ट्टे] १ हाथी की पीठ पर बसा जाता होता, हीदा (आपा १, १—पत्र १) टी, श्रोप) । २ डोना, दो घास्मी से बन्नी जाती एक प्रकार की शिबिया (सू ३, २ दना ६) ।

गिन्वाण पु [गोवाण] देर, गुर, रिण (उप ५३० टी) ।

गिह न [गृह] घर, मकान (आपा भा २३ न्यन ६८) । २ थ्य पुछी [गृथ] गृह्य, गृह संभारी (कप्प-द्र ५) । छी. ३ थ्या (उत्त ४६, ३३) । ४ नाह पु [नाथ] घर का मानित (आ २८) । ५ निगि कुंठि [निगि] निगि गृह्य, गृह, संभारी (दं) । ६ थ्य पुछी [पनि] गृह्य, गृह, घर का मानित (ठा १, २, सुपा २३८) । ७ थाम उ [वाम] १ घर मे निवास । २ गिह्यक संभारिना गिह्यास धर्म गिह्यक संभारि उचितप्रो उचित (पउम सू १, २) । ३ थ्य पुं [थ्यन्] गिह्यक संभारि, संभारि (सू १, ८, १) । ४ थाम पुं [थाम] घर काय, गिह्यक संभारि (ग १४८) ।

१, १—पत्र ४३ टी, उवा १) । २ सन का वना हुआ वल्ल (सम १२३, भग ११, ११, परह २, ४) । ३ रेशमी वल्ल (उप १४६, स २००) । ४ वि अतसी संवधी, सन-सवन्धी, (ठा १०, भग १, १ ११) । °पसिण न [°प्ररन] विद्या विशेष, निम्ने वल्ल में देवता का आह्वान किया जाता है (ठा १०) ।

गोमिय न [क्षौमिक] १ कपास का बना हुआ वल्ल (ठा ३, ३) । २ सन का बना हुआ वल्ल (कप) ।

खोमिय वि [क्षौमिक] १ रेशम सम्बन्धी । २ सन-सम्बन्धी (पव १२७) । खोय देखो खोद (सम १५१, इक) । खोर } न [दे] पात्र-विशेष, कचोलक, कटोरा खोरय } (उप पृ १३५, एंदि) । खोल पु [दे] १ छोटा गवा (दे २, ८०) । २ वल्ल का एक देश (दे २, ८०, ५, ३०, वृह १) । ३ मय का नीचला कोट कदम (आचा २, १, ८, वृह १) । खोल पु [दे] गुप्तचर, जासूस (पिंड १२७) । खोल्ल न [दे] कोटर, गह्वर 'खोल्ल कोत्थर' (निचू १५) ।

खोसलय वि [दे] दत्तुल, लम्बे और बाहर निकले हुए दाँतवाला (दे २, ७७) । खोसिय वि [दे] जीर्ण-प्राय किया हुआ (पिंड ३२१) । खोह देखो खोभ = क्षोभ्य । खोहह (भवि) । वक्र खोहँत (से १५, ३३) । कवक. खोहि-ज्जत (से २, ३) । खोह देखो खोभ = क्षोभ (परह १, ४, कुमा सुपा ३६७) । खोहण देखो खोभण (आ १२, सुपा ५०२) । खोहिय देखो खोभिय (सण) ।

॥ इय सिरिपाइअसद्महणवो खआराइसद्सकलणो एआरहमो तरंगो समत्तो ॥

ग

ग पु [ग] व्यञ्जन-वर्ण विशेष, इसका स्थान वरुण है (आमा, प्राप) ।

°ग रि [°ग] १ जानेवाला । २ प्राप्त होने-वाना, जेतो—पारग, वसग (आचा, महर) ।

गअयन वि [गतयन्] गया हुआ (प्राह ३५) ।

गट गो [गति] १ जान, भ्रमबोध (विने २५०२) । २ प्रकार, भेद (ने १, ११) । ३ गमन, चना, देशान्तर-प्राप्ति (कुमा) ।

४ आचार-प्राप्ति, भ्रमातर-गमन ठा (१ १, ५) । ५ दे, मनुष्य, नियन्त्र, नरक पर गुरु ज्ञेय को अत्र-या, देनादि-योनि (ठा ४, ३) । °तम पु [°त्रम] अग्नि

पर गातु दे कीर (गम्म ३, १०, ८, १६) । °नाम न [°नामन] देनादि गति का कारण-द्वारा (स ५७) । °प्यत्रय पु [°प्रदान] १ नर को विदाता (परह १६) । २ संपत्ति-विशेष (स ८, -) ।

गउ गी [गौरी] १ पार्वती, शिव-पत्नी (सुपा १०६) । २ गौर वरुवाली स्त्री । ३ स्त्री-विशेष (कुमा) । °पुत्त पु [°पुत्र] पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कार्तिकेय (सुपा ४०१) ।

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गउ गी स्त्री [गौरी] १ पार्वती, शिव-पत्नी (सुपा १०६) । २ गौर वरुवाली स्त्री । ३ स्त्री-विशेष (कुमा) । °पुत्त पु [°पुत्र] पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कार्तिकेय (सुपा ४०१) ।

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

न [°पद] गिरजार पर्वत का एक जल-तीर्थ (ती ३) । गइल्य देखो गय = गत (सुख २, २२) । गउ } पु [गो] बैल, वृषभ, सांड (हे १, गउअ } १५८) । °पुच्छ पु न [°पुच्छ] १ बैल की पूँछ । २ बाण विशेष (कुमा) । गउअ पु [गवय] गो तुल्य आकृतिवाला जंगली पशु-विशेष, नील गाय (कुमा) । गउआ स्त्री [गो] गैया, गौ (हे १, १५८) । गउड पु [गौड] १ स्वनाम ध्यात देश, बगल का पूर्वी भाग (हे १, २०२, सुपा ३८६) । २ गौड देश का निवामी (हे १, २०२) । ३ गौड देश का राजा (गउड, कुमा) । °वह पु [°वय] वास्पतिराज का बनाया हुआ प्रादुर्भूत-भाषा का एक वाक्य-ग्रथ (गउड) । गउण नि [गौण] अग्रधान, अमुल्य (दे १, -) । गउगी स्त्री [गौगी] शक्ति-विशेष, शन्द की एक शक्ति (दे १, ३) । गउरय देना गारय (कुमा, हे १, १६३) ।

गउरविय वि [गौरवित] गौरव-युक्त किया हुआ, जिसका आदर—सम्मान किया गया हो वह, 'तज्जणयाइ तत्यागयाइ वेवेहि चेव दियहेहि, गउरवियाइ रयणायरेण' (सुपा ३५६, ३६०) । गउरी स्त्री [गौरी] १ पार्वती, शिव-पत्नी (सुपा १०६) । २ गौर वरुवाली स्त्री । ३ स्त्री-विशेष (कुमा) । °पुत्त पु [°पुत्र] पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कार्तिकेय (सुपा ४०१) ।

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गउ गी स्त्री [गौरी] १ पार्वती, शिव-पत्नी (सुपा १०६) । २ गौर वरुवाली स्त्री । ३ स्त्री-विशेष (कुमा) । °पुत्त पु [°पुत्र] पार्वती का पुत्र, स्कन्द, कार्तिकेय (सुपा ४०१) ।

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

गअ देखो गय = गत, 'भीया जहागयगई पडिवज्ज गए' (रभा) । गग पु [गङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्रिय मत का प्रवर्तक आचार्य (ठा ७, विसे २४२५) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक जैन मुनि, जो पृष्ठ वामुदेव के पूर्वजन्म के गुरु थे (स १५३) । २ नववें वामुदेव के पूर्वजन्म का नाम (पउम २०, ७१) । ३ इस नाम का एक जैन श्रेष्ठी (भग १६, ५) । °त्ता एक सायंगह की स्त्री (स ७) । गग° देना गगा °प्रपात]

मग्न, छुशी मे लीन, 'तं वह दट्ठुं' आणुं-
बु'दल' (सुपा १३४) ।

गुं'दवडय न [दे] एक प्रकार की मिठाई, गुज-
राती मे जिसको 'गु'दवडा' कहते हैं (सुपा
४८५) ।

गुदा } ली [दे] १ विन्दु २ अक्षम, नीच
गुंया } (दे २, १०१) ।

गुध सक [ग्रन्थ] गठना । गुधइ (प्राक
६३) ।

गुफ सक [गुम्फ] गुंथना, गठना । गुफइ
(षड्) वक्क गुफत (कुमा) ।

गुफ पुं [गुम्फ] १ रचना, गुंथना, ग्रन्थन
(उप १०३१ टी, दे १, १५०, ६, १४२) ।

गुफ पुं [दे] गुप्ति, कारागार, जेल (दे २,
६०) ।

गुफण न [दे] गोफन, पत्थर फेंकने का अक्ष-
विशेष, 'गु फणफेरणसुकारणहि' (सुर २, ८) ।

गुफ्ठी ली [दे] शतपदी, छुद्र कीट-विशेष,
गोजर, कनखलूरा (दे २, ६१) ।

गुग्गुल पुं [गुग्गुल] सुगन्धित द्रव्य-विशेष,
भृगल या शुग्गुल (सुपा १५१) ।

गुग्गुली ली [गुग्गुल] भृगल का पेड (जी
१०) ।

गुग्गुलु देखो गुग्गुल (स ४३६) ।

गुच्छ } पु [गुच्छ] १ गुच्छा, गुच्छक,
गुच्छय } स्तवक (उत्त २, स्पन् ७२) । २
बुझी की एक जाति (परण १) । ३ पत्तो
का समूह (ज १) ।

गुच्छय देखो गोच्छय (शेष ६६८) ।

गुच्छित वि [गुच्छित] गुच्छा वाला, गुच्छ-
युक्त, 'निच्चं गुच्छिया' (राय) ।

गुज्ज देखो गोज्ज (सुपा २८१) ।

गुज्जर पुं [गुज्जर] १ भारत का एक प्रान्त,
गुजरात देश (पिंग) । २ वि. गुजरात का
निवासी । ली. 'री (नाट) ।

गुज्जरता ली [गुज्जरता] गुजरात देश (सार्ध
६८) ।

गुज्जलिअ वि [दे] संघटित (पड्) ।

गुज्जम पु [गुज्ज] एक देव-जाति (दस ७,
५३) ।

गुज्जम } वि [गुज्ज] १ गोपनीय, छिपाने
गुज्जमअ } योग्य (शाया १, १, हे २, १२४) ।
२ न. गुप्त बात, रहस्य, 'सिर्मतिणिहिययगयं

गुज्जम पिव तत्तवणा फुट्ट' (उप ७२८ टी) ।

३ लिंग, पुरुष-चिह्न । ४ योनि, ली-चिह्न (धर्म
२) । ५ मैथुन, समोग (परह १, ४) । 'हर
वि [धर] गुप्त बात को प्रकट नहीं करने-

वाला (दे २ ४३) । 'हर वि [हर] रहस्य-
भेदी, गुप्त बात को प्रसिद्ध करनेवाला (दे २,
६३) ।

गुज्जमअ } पुं [गुज्जम] देवों की एक जाति
गुज्जमा } (ठा ५, ३) ।

गुट्ट न [दे] स्तम्ब, तुण-काण्ड, 'अणुण-
गुट्ट व तत्स जाणुण' (उवा) ।

गुट्ट देखो गोट्ट (प्राञ्ज. भत्त १६२) ।

गुट्टी देखो गोट्टी (सूक्त ५८) ।

गुड सक [गुड] १ हाथी को कवच वगैरह
से सजाना । २ लडाईं के लिए तय्यार करना,
सजाना, 'गुडह गइदे पवणीकरेह रहवकपा-

इक्के' (सुपा २८८) । कवक 'गुडिअगुडिज्ज-
तमड' (से १२, ८७) ।

गुड सक [गुड] नियन्त्रण करना । गुडेइ
(सबोध ५४) ।

गुड पुं [गुड] १ गुड, ईक्ष का विकार, लाल
शक्कर (हे १, २०२, प्रासू १५१) । २ एक
प्रकार का कवच (राज) । 'सत्थ न [सार्थ]

नगर-विशेष (आक) ।

गुडदालिअ वि [दे] पिएडीकृत, इक्का किया
हुआ (दे २, ६२) ।

गुडा ली [गुडा] १ हाथी का कवच । २
अश्व का कवच (विपा १, २) ।

गुडिअ वि [गुडित] कवचित, धर्मित, कृत-
संनह (से १२, ७३, ८७, विपा १, २) ।

गुडिआ ली [गुटिका] गाली (गा १७७) ।

गुडीलद्धिआ ली [दे] कुम्भन (दे २, ६१) ।

गुडूर पुन [दे] लीमा या खेमा, तंबू, डेरा,
बन्न-गृह (सिरि ४८२, ६४४) ।

गुण सक [गुणय] १ गिनना । २ आबुत्ति
करना, याद करना । गुणइ (सूक्त ५१, हे
४, ४२२) गुणेइ (उव) । वक्क. गुणमाण

(उप पृ ३६६) ।

गुण पुं [गुण] उच्चारण (सूमनि २०) । २
रसना, मेखला (आचा २, २, १, ७) ।

गुण पुन [गुण] १ गुण, पर्याय, स्वभाव,
धर्म (ठा ५, ३) । २ ज्ञान, सुख वगैरह एक
ही साथ रहनेवाला धर्म (सम्म १०७, १०६) ।

३ ज्ञान, विनय, दान, शौर्य, सदाचार वगैरह
दोष-प्रतिपक्षी पदार्थ (कुमा, उत्त १६, अणु,
ठा ४, ३, से १, ४) । ४ लाभ, फायदा-

'विह्वेहि गुणाइ मगगति' (हे १, ३४, सुपा
१०३) । ५ प्रशस्तता, प्रशंसा (शाया १,
१) । ६ रज्जु, डोरा, धागा (से १, ४) ।

७ व्याकरण प्रसिद्ध ए, आ और अर् ल्य
स्वर-विकार (सुपा १०३) । ८ जैन गृह्य

को पालने का व्रत विशेष, गुणव्रत (पव
३) । ९ रूप, रस, गन्ध वगैरह द्रव्यप्रति

धर्म, 'गुण-पच्चक्कत्तएआ गुणीवि जायोपधान्
पच्चक्को' (ठा १, १, उत्त २८) । १०

प्रत्यन्वा, धनुष का रोदा (कुमा) । ११ कार्य,
प्रयोजन (भग २, १०) । १२ अप्रमाण,
अपुण्य, गौण (हे १, ३४) । १३ अंग,

विभाग (अणु) । १४ उपकार, हित (पचा
५) । 'कर वि [कर] १ लाभ-कारक । २

उपकार-कारक (पचा ५) । 'कार पु [कार]

गुणा करना, अग्न्यास-राशि (सम ६०) । 'चद
पुं [चन्द्र] १ एक राजकुमार (आवम) ।

२ एक जैन मुनि और ग्रन्थकार । ३ श्रेष्ठि-
विशेष (राज) । 'ट्टाण न [स्थान] गुणों

का स्वरूप-विशेष, मिथ्यादृष्टि वगैरह चउदह
गुण स्थानक (कम्म ४, पव ६०) । 'द्विअ

पु [ार्थिक] गुण को प्रधान माननेवाला
मत, नय-विशेष (सम्म १०७) । 'इड वि

[िद्व्य] गुणी, गुणवान (सुर ३, २०,
१३०) । 'ण, 'णु, 'न्न, 'न्नु वि [न्न]

गुण का जानकार (गज्ज. उवर ८६, व
५३० टी, सुपा १२२) । 'पुरिस पु [पुर्य]

गुणी पुरुष (सूम १, ४) 'मत वि [वत्]

उणी, गुण-युक्त (आचा २, १, ६) । 'रयणस-

वच्छर न [रत्नसयत्सर] तपरवर्मा विदेय
(भम) । 'व, 'वत वि [वत्] गुणी,

गुण-युक्त (आ ३६, उप ८७५) । 'व्यय न

[व्रत] जैन गृह्य को पालने योग्य-व्रत
विशेष (पडि) । 'सिलय न [गिलह]

राजगृह नगर का एक चैत्य (शाया १, १) ।
'सेटि ली [श्रेणि] कर्म-सूक्तों की रचन-

गड न [गण्ड] दोप, नाग (सूत्र १, ६ १६)। °माणिया स्त्री [°मानिका] पात्र-विशेष (राय १४०) °विइवाय पुं [°व्यति-पात] ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक योग (संबोध ५५)।

गडइया स्त्री [गण्डिका] नदी-विशेष (ध्रुवम)।

गडय पु [गण्डक] १ गेंडा, जानवर-विशेष (भाष, दे ७, ५७)। २ उदघोषणा करने-वाला पुरुष, टेर लगानेवाला पुरुष (श्रीध ६४४)।

गडली स्त्री [दे] गंडेरी, ऊल का टुकड़ा (उप ५ १०६)।

गडा देवा गठि = ग्रन्थि (प्राक् १८)।

गटाग पु [गण्डक] नाई, हजाम (आचा २, १, २, २)।

गडि पु [गण्डि] जन्तु-विशेष (उत्त १)।

गडि वि [गण्डिन्] १ गण्डमाला का रोग-वाना (आचा)। २ गण्ड रोगवाला (परह २, ५)।

गडिया स्त्री [गण्डिका] १ गंडेरी, ऊल का टुकड़ा (महा)। २ सोनार का एक उपकरण (ठा ४, ४)। ३ एक अर्थ के अधिकारवाली प्रथम-व्यक्ति (सम १२६)।

गटिल देवो गधिल (इक)।

गटिलानट देवो गधिलावई (इक)।

गटी स्त्री [गण्डी] १ सोनार का एक उपकरण (ठा ८, ४—पत्र २७१)। २ कमल की धारिणी (उत्त ३६)। °तिदुग न [°तिन्दुक] पत्र-विशेष (सी ३८)। °पय पु [°पद] गती धारण पनुपद जानवर (ठा ४, ४)। °पोथय पुन [°पुस्तक] पुस्तक-विशेष (ठा ८ २)।

गठीरी स्त्री [दे] गंडेरी, ऊल का टुकड़ा (दे २, ८०)।

गठोर न [गण्ठीय] १ घट्टे का धनुष (संज्ञा ११२)।

गठोर न [दे गण्ठीय] धनुष, बाहुन (दे २, ८४ भाग भाष)।

गठोरि पु [गण्ठीयिन] घट्टे, मध्यम-व्यक्ति (संज्ञा ११८)।

गडुअ न [गण्डु] श्रोतीसा, सिरहाना (महा)।

गडुअ न [गण्डुत्] तृण-विशेष (दे २, ७५)।

गंडुल पु [गण्डोल] कृमि-विशेष, जो पेट में पैदा होता है (जी १५)।

गडुवहाण न [गण्डोपधान] गाल का तकिया (पव ८४)।

गडूपय पु [गण्डूपद] जन्तु-विशेष (राज)।

गडूल देखो गडुल (परह १, १—पत्र २३)।

गडूस पु [गण्डूप] पानी का कुल्ला (गा २७०, सुपा ४४६), 'बहुमइरागडूसपाए' (उप ६८६ टी)।

गडूस पु [गण्डूप] पानी का कुल्ला (सुभ्रनि ५४)।

गत देखो गा।

गंतव्य } देखो गम = गम्।
गंता }

गतिय न [गन्तृक] तृण-विशेष (परण १—पत्र ३३)।

गती स्त्री [गन्ती] गाडी, शकट (धम्म १२ टी, सुपा २७७)।

गतु देखो गम = गम्।

गतुपञ्चागया स्त्री [गत्वाप्रत्यागता] शिक्षा-चर्या-विशेष, जैन मुनियों की शिक्षा का एक प्रकार (ठा ६)।

गतुकाम वि [गन्तुकाम] जाने की इच्छा वाला (आ १४)।

गतुमण वि [गन्तुमनस्] ऊपर देखो (वमु)।

गतूण } देखो गम = गम्।
गतूण }

गध देखो गठ—ग्रन्थ। गयइ (पि ३३३)। कर्म गधोप्रति (पि ५४८)।

गध पु [ग्रन्थ] १ शास्त्र, सूत्र, पुस्तक (विसे ८६४, १३८३)। २ घन-धान्य वगैरह वाद्य मिय्यात्व, क्रोध, मान आदि आभ्यन्तर उपधि, परिग्रह (ठा २, १, वृह १, विसे २५७३)। ३ घन, पैसा (न २३६)। ४ म्वजन, सक्की लोग (परह २, ८)। °ईअ पु [°तीत] जैन माधु (मूष १, ६)।

गंथि वि [ग्रन्थिन्] रचना-कर्ता (सम्मत १३६)।

गंथि देखो गठि (परह १, ३—पत्र ४४)।

गथिम देखो गठिम (शाया १, १३)।

गदिला स्त्री [गन्दिला] देखो गंधिल (इक)।

गदोणी स्त्री [दे] क्रीडा-विशेष, जिसमें अख वद की जाती है, आँख-मिचौनी (दे २, ८३)।

गदुअ देखो गेंदुअ (षट्)।

गध पुं [गन्ध] १ गन्ध, नासिका से ग्रहण करने योग्य पदार्थों की वास, महक (श्रीप; भग, हे १, १७७)। २ लव, लेश (से ६, ३)। ३ चूर्ण विशेष (परह १, १)। ४ वानव्यन्तर देवों की एक जाति (इक)। ५ न देव-विमान विशेष (निर १, ४)। ६ वि. गन्धयुक्त पदार्थ (सूत्र १, ६)। °उडी स्त्री [°कुटी] गन्ध-द्रव्य का घर (गउड, हे १, ८)। °कासाइया स्त्री [°काषायिना] सुगन्धि कपाय रग की साडी (उवा, भग ६, ३३)। °गुण पु [°गुण] गन्धरूप गुण (भग)। °ट्टय न [°ट्टक] गन्ध-द्रव्य का चूर्ण (ठा ३, १—पत्र ११७) °डूढ वि [°डूढय] गन्धपूर्ण, सुगन्धपूर्ण (पचा २)।

°णाम न [°नामन्] गन्ध का हेतुभूत कर्म-विशेष (अणु)। °तैल न [°तैल] सुगन्धित तैल (कम्पु)। °दव्व न [°द्वय] सुगन्धित वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १)। °देवी स्त्री [°देवी] देवी-विशेष, सौधर्म देवलोक की एक देवी (निर १, ४)। °द्वणि स्त्री [°ध्राणि] गन्ध वृत्ति (शाया १, १—पत्र २५, श्रीप)। °नाम देखो °णाम (मम ६७)। °मय पु [°मृग] कस्तूरी मृग, कस्तूरिया हरिन (सुपा २)। °मत वि [°वत्] १ सुगन्धित, सुगन्ध युक्त। २ प्रतिशय गन्धवाला, विशेष गन्ध से युक्त (ठा ५, ३—पत्र ३३३)। °मादण, °मायण पु [°मादन्] १ पर्वत-विशेष, इन नाम का एक पहाड़ (सम १०३, परह २, २, ठा २, ३—पत्र ६६)। २ पुन पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा २, ३—पत्र ८०)। ३ न. नगर-विशेष (इक)। °वई स्त्री [°वनी] भूतानन्द-नामक नागेन्द्र का आवागमन-स्थान (दीव)। °वट्टय न [°वत्तक]

गुम्मइअ वि [दे] १ मूढ, मूर्ख (दे २, १०३, श्लोक १३६, पात्र, षड्) । २ अपूरित, पूर्ण नहीं किया हुआ (षड्) । ३ पूरित, पूर्ण किया हुआ (दे २, १०३) । ४ स्वलित । ५ सचलित, मूल से उच्चलित । ६ विघटित, वियुक्त (दे २, १०३, षड्) ।

गुम्मड देखो गुम्म । गुम्मडइ (हे ४, २०७) । गुम्मडिअ वि [मोहित] मोह-युक्त, मुग्ध किया हुआ (कुमा ७, ४७) ।

गुम्मागुम्मि अ जत्याबन्ध होकर (श्रौप) । गुम्मिअ वि [मुग्ध] १ मोह प्राप्त, मूढ (कुमा ७, ४७) । २ वृणित, मद से धूमता हुआ (बृह १) ।

गुम्मिअ पु [गौलिमक] कोतवाल, नगर-रक्षक (श्लोक १६३, ७६६) ।

गुम्मिअ वि [दे] मूल से उखाड़ा हुआ, उन्मूलित (दे २, ६२) ।

गुम्मी स्त्री [दे] इच्छा, अभिलाषा (दे २, ६०) ।

गुम्मी स्त्री [गुल्मी] शतपदी, युका, खटमल, कुँ (उत्त ३६, १३६, सुख ३६, १३६) ।

गुम्ह सक [गुम्फ] शूथना, गठना । गुम्हडु (शौ) (स्वप्न ५३) ।

गुहा देखो गुज्ज (हे २, १२४) ।

गुरव देखो गुरु, 'जो गुरवे साहीणे घम्म साहेइ पोडबुद्धिओ' (पउम ६, ११४) ।

गुरु पु [गुरु] १ शिक्षक, विद्या-दाता, गुरुअ पढानेवाला (वव १, अणु) । २ धर्मोपदेशक, धर्माचार्य (विसे ६३०) । ३ माता, पिता वगैरह पूज्य लोग (ठा १०) । ४ बृहस्पति, ग्रह-विशेष (पउम १७, १०८, कुमा) । ५ स्वर विशेष, दो मात्रावाला आ, ई वगैरह स्वर, जिसके पीछे अनुस्वार या संयुक्त व्यञ्जन हो ऐसा भी स्वर-वर्ण (पिण) । ६ वि. वडा, महान् (उवा. से ३, ३८) । ७ भारी, बोझिल (ठा १, १, कम्म १) । ८ उल्लूक, उत्तम (कम्म ४, ७२, ७६) । ९ कम्म वि [कर्मन्] कर्मों का बोझवाला, पापी (सुपा २६५) । १० कुल न [कुल] १ धर्माचार्य का सामीप्य (पचा ११) । २ गुरु-परिवार (उप ६७७) । १ गइ स्त्री [गति]

गति-विशेष, भारीपन से ऊँचा-नीचा गमन (ठा ८) । १ लाघव न [लाघव] सारासार, अच्छा और बुरापन (वव ४) । २ सच्चिन्मल्ला पु [सहाध्यायिक] गुरु के भाई (बृह ४) । गुरुई देखो गरुई (णाय १, १) ।

गुरुणी स्त्री [गुर्वी] १ गुरु-स्थानीय स्त्री (पुर ११, २११) । २ धर्मोपदेशिका, साध्वी (उप ७२८ टी) ।

गुरेड न [गुरेट] वृण-विशेष (दे १, ५४) ।

गुल देखो गुड = गुड (ठा ३, १, ६, णाय १, ८, गा ५५४, श्रौप) ।

गुल न [दे] बुम्बन (दे २, ६१) ।

गुलगुंल सक [उत् + क्षिप्] ऊँचा फेंकना । गुलगु छइ (हे ४, १४४) । सक गुलगुळ्ळिऊण (कुमा) ।

गुलगुळ्ळ देखो गुलगुळ्ळ = उद + नमय् । गुलगु छइ (हे ४, ३६) ।

गुलगुल अक [गुलगुलाय] 'गुलगुल' आवाज करना, हाथी का हर्ष से चिंत्ताडना या बोलना । वक्क गुलगुलत, गुलगुलेत (उप १०३१ टी, उवा. पउम ८, १७१, १०२, २०) ।

गुलगुलाइअ न [गुलगुलायित] हाथी की गुलगुलिय } गर्जना (ज ५, सुपा १३७) ।

गुलल सक [चाटौ कू] कुशामद करना । गुल-लइ (हे ४, ७३) । वक्क गुललत (कुमा) ।

गुललावणिया स्त्री [गुडलावणिका] एक तरह की मिठाई, गोलपापडी । २ गुडघाना (पव २५६, सुज २० टी) ।

गुलहाणिया स्त्री [गुडधानिका] खाद्य-विशेष (पव ४) ।

गुलिअ वि [दे] मथित, विलोडित (दे २, १०३, षड्) । २ पु गेंद, कन्दुक, 'कदुओ गुलियो' (पात्र) ।

गुलिआ स्त्री [दे] १ बुसिका । २ गेंद, कन्दुक । ३ स्तवक, गुच्छा (दे २, १०३) ।

गुलिआ स्त्री [गुलिका] १ गोली, बुटिका (महा. णाय १, १३, सुपा २६२) । २ वर्षांक द्रव्य-विशेष, सुगन्धित द्रव्य-विशेष (श्रौप, णाय १, १—पत्र २४) ।

गुलुइय वि [दे] शुभित, शुल्मवाला, लता समूहवाला (श्रौप, भग) ।

गुलुळ पु [गुलुळ्ळ] गुच्छ, गुच्छा (दे २, ६२) ।

गुलुगुळ्ळ देखो गुलगुळ्ळ = उद + विप् । गुलुगु छइ (हे ४, १४४) ।

गुलुगुळ्ळ सक [उत् + नमय्] ऊँचा करना, उन्नत करना । गुलुगु छइ (हे ४, ३६) ।

गुलुगुळ्ळिअ वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुआ, उन्नमित (दे २, ६३, कुमा) ।

गुलुगुळ्ळिअ वि [दे] बाढ से अन्तरित (दे २, ६३) ।

गुलुगुल देखो गुलुगुल । गुलुगुलति (भवि) । वक्क गुलुगुलेत (पि ५५८) ।

गुलुगुलाइय } देखो गुलुगुलाइअ (श्रौप, गुलुगुलिय } पएह १, ३, स ३६६) ।

गुलुळ्ळ वि [दे] अमित, धुमाया हुआ, (दे २, ६२) ।

गुलुळ्ळ पु [गुलुळ्ळ] गुच्छा, स्तवक (पात्र) । गुलुइय वि [गुल्मवत्] लता-समूहवाला शुल्म युक्त (णाय १, १—पत्र ५) ।

गुव देखो गुप्त = गुप् । गुवति (भग १५) । 'गुवल्लय देखो कुवल्लय, 'मुद्दियगुवल्लयनिहाए' (एदि) ।

गुवालिया [दे] देखो गोआलिआ (जी १७) । गुविअ वि [गुम] व्याकुल, धुव्व (ठा ३, ४—पत्र १६१) ।

गुविल वि [गुपिल] १ गहन, गहप, गाढ, निविड (सुर ६, ६६, उप पु ३०, पएह १, ३) । २ न भाडी, जगल (उप ८३३ टी) । 'इक्को करइ कम्म, इक्को अणुहवइ दुक्कयविमार । इक्को संसरइ जिओ, जरमरएणचउगइविल' (पव ४४) ।

गुविल वि [दे] बीनी का बना हुआ, मिनी वाला (मिटात्र) (उर ५, १०) ।

गुन्विणी स्त्री [गुविणी] गर्भवती स्त्री (मुत्ता २७७) ।

गुह देखो गुभ । गुहइ (हे १, २३६) ।

गुह पु [गुह] कार्तिकेय, एक शिव-पुत्र (पात्र) ।

गुहा स्त्री [गुहा] युका, बन्दरा (पात्र, ठा २, ३, प्रासू २७१) ।

गुहिर वि [दे] गम्भीर, गहरा (पात्र, कम्मो) ।

गग पु [गग] १ ऋषि-विशेष । २ गोत्र-
शियेप, जो गोतम गोत्र की एक शाखा है
(डा ७) ।
गग पु [गग] १ एक जैन महर्षि (उत २७,
१) । २ विक्रम की बारहवीं शताब्दी का
एक श्रेष्ठि (कुप १४३) ।
गग पु [गग] गग गोत्र में उत्पन्न ऋषि-
विशेष (उत २७) ।
गगर वि [गद-गद] १ गद्वद आवाजवाला,
शक्ति शम्पु वक्ता (प्राप्र) । २ श्रान्त या दुःख
में शम्पुक्त कथन (हे १, २१६, कुमा) ।
गगरी स्त्री [गगरी] गगरी, छोटा घडा (दे
२, ८६, मुपा ३३६) ।
गगिर देयो गगगर, 'रुजगगिर गे' (गा
८४३, मण) ।
गगद म न [गग] १ जाना, गगन करना ।
२ जानना । ३ प्राप्त करना । गगद (प्राप्र,
पद) । भवि गगद (हे ३, १७१, प्राप्र) ।
गग गगद, गगदमाण (मुर ३, ६६,
मग १२, ६) । सग गगद (कुमा) ।
गग गगद (मि ५६८) ।
गग पु [गग] १ समूह, नाथ, संघात
(म १४८) । २ एक आचार्य का परिवार
(मौन मं ४०) । ३ गुण-परिवार, 'गुणपरिवारो
गग गग वमतण एण्डरा विठना' (पचव,
प ३) । 'वाम पु [वास] गुण-गुल मे
गग, गगदपरिवार के माप निगम (धर्म
२) । 'विहार पु [विहार] गगद की
मागगारो, गगद का आचार (ग १) ।
'मारणा गो [मारणा] गगद का रण
(ग १) ।
गगगगगगि, ग गग-गग ने होत (धोप) ।
गगि गगि [गगगग] गगदगग, गगद
के गगगग (र १) ।
गग गग गग = गग (ग प्रा १७१
२१) । 'गग पु [गग] गग गग पुनि,
गगगग का गग (र ६०) ।
गग [ग] गग का, गग गगि (दे २,
८१, मण) ।
गग [ग] गग-गग गग गगग । डा
१, ६, गग ३८३) ।

गग अक [गग] गगना, गगगगना, गग-
गगना । गगद (हे ४, ६८) । वग. गगंत,
गगयत (मुर २, ७५, रण ५८) ।
गगण न [गगण] १ गगन, भयानक ध्वनि,
मेघ या सिंह का नाद । २ गग-विशेष (उप
७६५) ।
गगणसह पु [दे गगनशब्द] पशु और
हाथी की आवाज (दे २, ८८) ।
गगफल } वि [दे] देश-विशेष में उत्पन्न
गगल } (वग) (आचा २, ५, १, ५, ७) ।
गगभ पु [गगभ] पश्चिमोत्तर दिशा का
पवन (श्रवम) ।
गगर पु [दे] कन्द-विशेष, गगर, गगरा,
इसका खाना धर्म-शास्त्र में निषिद्ध है । (आ
१६, जो ६) ।
गगल वि [गगल] गगन करनेवाला (निच
७) ।
गगद देवो गगभ (श्रवम) ।
गगि स्त्री [गगि] गगन, हाथी वगैरह की
आवाज (कुमा मुपा ८६, उप पु ११७) ।
गगिअ वि [गगिअ] १ जिसने गगन किया
हो वह, स्तनित (प्राप्र) । २ न गगन, मेघ
वगैरह की आवाज (पण १, ३) ।
गगिनु } नि [गगिनु] गगन करनेवाला,
गगिर } गगननेवाला (डा ४, ४-प २
२ ६, गा ५५) ।
गगिअअ न [दे] १ गुदगुदी, गुदगुदाहट ।
२ अग-स्पर्श से होनेवाला रोमाच, पुलक
(पद) ।
गगवि [गगवि] गगण योग्य (स १४०,
विने १७०७) ।
गगण पु [गगण] धरण्ड की नादव-मेना का
श्रियति (राज) ।
गगि गगि [दे] गगि, गुठनी, 'अगगगि' (निच
१५) ।
गग न [गग] १ गगिणी शिना, मोटा पत्थर
(दे २, ११०) । २ गग, गग (मुर १३, ८१) ।
गग (मा) देवो गग = गग (प्राप्र) ।
गग गग पु [दे] गगन, भयानक ध्वनि, हाथी
वगैरह की आवाज 'ता गगद कुणतो,
गगगग गगग, तय' 'दगगरे मय विम,

सो जकसो गगदं पकुवतो' (मुपा २८१,
५४२) ।
गगदअक [दे] गगन करना, भयानक
आवाज करना । वग. गगदअत (मुपा
१६५) ।
गगदली स्त्री [दे] वग-निर्घोष, गगद गगद,
मेघ ध्वनि (दे २, ८५, सण) ।
गगद न [दे] गगद, गोलमाल (मुपा
५४१) ।
गगिअ } देखो गग = गग ।
गगिअ }
गगुल न [दे] चावल वगैरह का बोया-जल,
चावल आदि का धोवन (धर्म २) ।
गगु पुत्री [गगु] गगद, गगद (हे २, ३२,
प्राप्र, मुपा ११४) । स्त्री. गगु (हे १,
३५) ।
गगु न [दे] शकट, गाडी (तो १५) ।
गगुरिया } स्त्री [दे] मेडी, मेवी, अण्डाण्ड,
गगुरिया } 'गगुरियावाहेण गगुरियाण्डय जण
वियाणतो' (धम्म, सूत्र १, ३, ४) ।
गगुरी स्त्री [दे] १ छागी, अजा, बकरी (दे
२, ८४) । २ मेडी, मेवी (सहि ३८) ।
गगु पुत्री [गगु] गगद, गग, खर (हे
२, ३७) । 'वाहण पु [वाहण] रावण,
वगणन (कुमा) ।
गगिआ } स्त्री [दे] गाडी, शकट (शोच ३८६
गगि } दी, दे २, ८१, मुपा २५२) ।
गगद न [दे] शय्या, बिछौना (दे २, ८१) ।
गग देखो गग = गग । गगद (हे ४, ११२) ।
गग पुत्री [दे] गग, दुर्ग, किला, कोट (दे २,
८१, मुपा २५, १०५) । स्त्री गगद (कुमा) ।
गगिअ वि [वटित] गगद हुआ, जटित
(कुमा) ।
गगिअ वि [अथित] १ घूँसा हुआ, निवद्ध,
'नेहनिगगगगिआण' (उप ६८६ टी, पण १,
४) । २ रचित, गुम्फित, निर्मित (डा २, १) ।
३ गग, आनक, (आचा २, २, २, पण १,
२) ।
गग मक [गगम] १ गगना, गगनी करना ।
२ श्रादर करना । ३ अगगना करना, आवृत्ति
करना । ४ पर्यायवाची करना । गगद, गगिअ
(कुमा, महा) । वग गगन, गगन (पच
६, से ४, १५) । क गगगग (उप ५५५) ।

१, २)। °दास पु [°दास] १ एक जैन-मुनि, भद्रबाहु स्वामी का प्रथम शिष्य। २ एक जैनमुनिगण (कथ, ठा ६)। °दोहिया स्त्री [°दोहिका] १ गौ का दोहन। २ आसन विशेष, गौ दुहने के समय जिस तरह बैठता जाता है उस तरह का उपवेशन (ठा ५, १)। °टुह वि [°टुह] गौ को दोहने-वाला (पद्)। °धूलिआ स्त्री [°धूलिका] लग्न विशेष, गौओ को चरा कर लौटने का समय, सायकाल, 'बिलव गोधूलिया' (रंभा)। °पय °पय न [°पय] १ गौ का खुर दूबे उतना गहरा, 'लद्धम्मि जम्मि जीवाण जायद गोपय व भवजलही' (आप ६६)। २ गोपद-परिमित भूमि (आणु)। ३ गौ का खुर (ठा ४, ४)। °भद पु [°भद्र] श्रेष्ठि-विशेष, शालिभद्र के पिता का नाम (ठा १०)। °भूमि स्त्री [°भूमि] गौओ को चरने की जगह (भावम)। °म वि [°मत्] गौवाला (विसे १४६८)। °मड न [°मूत्] गौ का शव (आया १, ११—पत्र १७३)। °भय न [°भय] गोबर, गौ का मल, गो-विष्टा (भय ५, २)। °मुत्तिया स्त्री [°मुत्तिया] १ गौ का मूत्र, गोमूत्र (भोष ६४ भा)। २ गोमूत्र के आकारवाली गृहपत्ति (पचव २)। °मुह्तिआ न [°मुह्ति] गो के मुख की आकारवाली ढाल (आया १, १८)। °रहग पु [°रथक] तीन वर्ष का बैल (सूत्र १, ५, २)। °रोयण स्त्री [°रोचन] स्वनाम-ख्यात पीत-वर्ण ब्रह्म-विशेष, गोमस्तकस्थित शुष्क-पित्त (सुर १, १३७)। स्त्री °णा (पचा ४)। °लेहणिया स्त्री [°लेहनिका] ऊपर भूमि (निच ३)। °लोम पु [°लोम] १ गौ का रोम, बाल। २ द्वीन्द्रिय जन्तु विशेष (जीव १)। °वइ पु [°पति] १ इन्द्र। २ सूर्य। ३ राजा (सुपा १४२)। ४ महादेव। ५ बैल (हे १, २३१)। °वइय पु [°व्रतिक] गौओ की चर्या का अनुकरण करनेवाला एक प्रकार का तपस्वी (आया १, १५)। °वय देखो °पय (राज)। °वाड पु [°वाट] गौओ का बाडा (दे १४६)। °वइय देखो °वइय (शौप)। °साला स्त्री [°शाला]

गौओ का बाडा (निच ८)। °हण न [°धन] गौओ का समूह (गा ६०६, सुर १, ४६)। गोअ देखो गोअ = गोपय। कृ गोअणिज्ज (नाट—मालती १२१)। गोअट पु [°दे] १ गौ का चरण। २ स्थल-शृङ्गाट, स्थल में होनेवाला शृङ्गाट या सिधाडा का पेड (दे २, ६८)। गोअग्गा स्त्री [°दे] रथ्या, गृहल्ला (दे २, ६६)। गोअळा स्त्री [°दे] दूध बेचनेवाली स्त्री (दे २, ६८)। गोअर पु [°गोचर] छात्रालय (दस ५, २, २)। गोअलिणी स्त्री [°गोपालिनी] ग्वालिन, जो गयणभूमिभंडोपरम्मि जुह्वावहीय महणोण। पुन्निमगोअलिणोए भक्खणपिहुव्व निम्मविओ' (धर्मवि ५५)। गोआ स्त्री [°गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी नदी, 'गोआणदकच्छकुडगवासिणा दरियसी-हेण' (गा १७५)। गोआ स्त्री [°दे] गगरी, कलशो, छोटा घडा (दे २, ८९)। गोआअरी स्त्री [°गोदावरी] नदी-विशेष, गोदावरी (गा ३५५)। गोआलिआ स्त्री [°दे] वर्षा ऋतु में उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष (दे २, ६८)। गोआवरी देशो गोआअरी (हे २, १७४)। गोअर न [°गोपुर] नगर या किले का दरवाजा (सम १३७, सुर १, ५६)। गोअलिय वि [°गोकुलिक] गो-धन पर नियुक्त पुरुष, गोकुल-रक्षक (कुप ३१)। गोओ } स्त्री [°दे] मजरी, वीर (दे २, ६५)। गोओ } गोओ देखो फोंड = कौण्ड (इक)। गोओ न [°दे] कानन, वन, जगल (दे २, ६४)। गोओ स्त्री [°दे] मजरी, वीर (दे २, ६५)। गोओल देखो गुओल (भवि)। गोओण न [°दे] मयूर-पित्त, मोर का पित्त (दे २, ६७)। गोओफ पु [°गुलफ] पाद-ग्रन्थि, पैर की गांठ (पएह १, ४)। गोओण्ण पु [°गोकर्ण] १ गौ का कान। गोओण्ण } २ दो खुवाला चतुष्पद विशेष

(पएह १, १)। ३ एक अन्तर्द्वीप, द्वीप विशेष। ४ गोकर्ण-द्वीप का निवासो मनुष्य (ठा ४, २)। गोओलिज्ज देखो गो-कलिज्जय (राप १४)। गोओखुरय पु [°गोखुरक] एक श्रौचि का नाम, गोखरु (स २५६)। गोओय पु [°दे] प्राजन दण्ड, कोडा, चातुक (दे २, ६७)। गोओच्छ देखो गुओच्छ (से ६, ४७, गा ५३२)। गोओच्छअ } पुन [°गोओच्छक] पात्र गौए गोओच्छग } साफ करने का बरत-खण्ड (इका पएह २, ५)। गोओच्छइ न [°दे] गोमय, गो विष्टा (गुच्छ ३४)। गोओच्छा स्त्री [°दे] मजरी, वीर (दे २, ६५)। गोओच्छिय देखो गुओच्छिय (शौप-आया १, १)। गोओइ देखो गोओइड (नाट—पुच्छ ४१)। गोओलोया स्त्री [°गोओलोया] धुद कीट विशेष, द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष (पएण १५)। गोओज पु [°दे] १ शारीरिक दीपवाला बैल (सुपा २८१)। २ गानेवाला, गवया, गाय, वीर्यावससणाह, गीय नडनदृष्टतगोओइह। वंदिजणेण सहरित्त, जयसहालाण च वय' (पटम ८५, १६)। गोओट्ट पु [°गोष्ट] गोवाडा, गौओ के रहने का स्थान (महा-पटम १०३, ४०, गा ४७७)। गोओट्टामाहिल पु [°गोष्टामाहिल] कम-युवती को जीव प्रदेश से भ्रमर माननेवाला ए जेनाभास आचार्य (ठा ७)। गोओट्ट देखो गोओट्टी (भावम)। गोओट्टि पु [°गोष्टिक] एक मएइनी व गोओट्टिण सवत्य, मिथ, समान वयम दान्न गोओट्टिय' (आया १, १६—पत्र २०२, विपा १, २—पत्र ३७)। गोओट्टा स्त्री [°गोष्टी] १ मएइनी, समान य वानो की ममा (प्राप्र-दसनि १, आया १, १६)। २ वातालाप, परामर्श (हुमा)। गोओ पु [°गोड] १ देश-विशेष (म २८६)। २ वि गोड देश का निवासो (पएह १, १)। गोओ पु [°दे] गोड, पाद, पैर (नाट—दृष्ट १५८)। गोओ स्त्री [°गोड] नदी-विशेष, गौड (गा ५८, १०३)।

गद्भी स्त्री [गर्दभी] १ गधो, गदही (पि २६१) । २ विद्या-विशेष (काल) ।

गद्दह पु [गर्दभ] १ गदहा, गधा, खर (सम ५०, दे २, ८०, पाग्र, हे २, ३७) । २ इस नाम का एक मंत्रियुव (वृह १) ।

गद्दह न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकसो कमल (दे २, ८३) ।

गद्दह न पु [गर्दभरु] १ क्षुद्रजन्तु-विशेष, जो गोशाला वगैरह में उत्पन्न होता है (जी १७) । २ देवी गद्दह (नाट) ।

गद्दही देवी गद्भी (नाट—मृच्छ ५८, निवृ १०) ।

गद्विज वि [दे] गवित, गर्भ-युक्त (दे २, ८३) । गद्व पु [गृध्र] पक्षि-विशेष, गीघ, गिद्ध (पीर) ।

गद्व वि [गण्य] १ माननीय, आदरास्पद, 'हियमण्यो वरंते, कस्म न होइ गद्वो युगलो', 'मवो गुणेहि गवो' (उव) । २ न गणना, गिनती, 'मुल्लत्स कुण्णद गन्' (मुपा २५३) ।

गन्भ पु [गर्भ] १ कुम्भि, पेट, उदर (ठा ५, १) । २ उत्पत्ति-स्थान जन्म-स्थान (ठा २, २) । ३ नृण, अन्तरापरय (कम्प) । ४ म्भ, अन्तर भीतर का (शाया १, ८) । 'गर्भो [करी] गर्भधान करनेवाली निद्या विशेष (सूय २, २) । 'घर न [गृह] नीतग ता पर, पर मा भीतरी नाम (शाया १, ८) । 'ज वि [ज] गम मे उत्पन्न गन्धरा प्राणी मनुष्य, पशु वर्गर्ह (पउम १०२, ६७) । 'व्य वि [व्य] १ गर्भ मे छेदेगा । २ गर्भ से उत्पन्न होनेवाला मनुष्य वर्गर्ह (ठा २, २) । 'माम पु [मान] गर्भ मे लेपर माय तव मा मन्त्र (पउ ७) । 'य देवी [ज] (जी २३) । '३० [रा] गमिणी गी (मुपा २७६) । 'वर्ह १ [व] कुमुदान्ति १ गमाशय मे [व] (ठा २, ३) । 'वर्कनेति वि [वर्कनेति] गर्भमेय मे निवर्ती (ठा २, २) । '१२ (सम २, २) । '१२ (सम २, २) । '१२ (सम २, २) ।

गन्धर देवी गद्भी (नाट—मृच्छ ५८, निवृ १०) ।

गन्धर पु [गन्ध] १ गन्ध, गति, चाल (उप २२० टी) । २ प्रवेश (पउम १, २६) । ३ शान्त का तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ, त्रिमता ता रमं मिन हा (दे १, १, निने ५६६, मग) । ४ व्याख्या, टीका (विने ६१३) । ५ मोघ, तान, नमक (प्रणु, गुदि) । ६ मार्ग, गता (ठा ७) ।

गन्धर पु [गन्ध] १ प्रसार (उव १) । २ नि जगम (म गति ८) ।

गन्धर देखो गद्दह, 'गन्धरो' (प्राक् २४, सक्षि १६) ।

गन्धभाहाण न [गर्भाधान] सस्कार-विशेष (राय १४६) ।

गन्धिभज पु [दे. गर्भज] जहाज का निम्न श्रेणी का नौकर 'कुच्छिधारकन्नधारगन्धिज (१ उज) सजत्ताणवावाणियगा' (शाया १, ८—पत्र १३३, राज) ।

गन्धिभण } वि [गर्भित] १ जिसको गर्भ गन्धिभय } पैदा हुआ हो वह, गर्भ-युक्त (हे १, १०८, प्राप्र, शाया १, ७) । २ युक्त, सहित, 'वेडिसदलनीलभित्तिगन्धिभय' (कुमा, पड) ।

गन्धिभल देखो गन्धिभज (शाया १, १७—पत्र २२८) ।

गम सक [गम्] १ जाना, गति करना, चलना । २ जानना, समझना । ३ प्राप्त करना । भूका गमिही (कुमा) । कर्म गम्भद, गमिज्जद (हे ४, २४६) । कवक गम्भमाण (म ३४०) । संक गतु, गमिअ, गता, गतूण, गतूण (कुमा, षड्, प्राप्र, श्रौप, कस), गदुअ, गद्विअ, गदुअ (शौ), (हे ४, २७२, पि ४८१, नाट—मालती ४०), गमेत्पि, गमेत्पिणु, गत्पि, गत्पिणु (अप), (कुमा) । हेह गतु (कस, आ १४) । क गतउय, गमणिउज, गमणीअ (शाया १, १, गा २४६, उव, भग, नाट) ।

गम मक [गमय] १ ले जाना । २ व्यतीत करना, पसार करना, गुजारना । गमेति (गउड), 'बुहा । मुहा मा दियहे गमेह' (मत्त ४) । कर्म गमेज्जति (गउड) । वक, गमत (मुपा २०२) । सक गमिऊण (पि) हेह गमित्तए (पि ५७८) ।

गम पु [गम] १ गमन, गति, चाल (उप २२० टी) । २ प्रवेश (पउम १, २६) । ३ शान्त का तुल्य पाठ, एक तरह का पाठ, त्रिमता ता रमं मिन हा (दे १, १, निने ५६६, मग) । ४ व्याख्या, टीका (विने ६१३) । ५ मोघ, तान, नमक (प्रणु, गुदि) । ६ मार्ग, गता (ठा ७) ।

गम पु [गम] १ प्रसार (उव १) । २ नि जगम (म गति ८) ।

गमग वि [गमक] बोधक, निश्चायक (विसे ३१५) ।

गमण न [गमन] गमन, गति (भग, प्रासू १३२) । २ वेदन, बोध (एवि) । ३ व्याख्यान, टीका । ४ पुण्य वगैरह नव नक्षत्र (राज) ।

गमणया } स्त्री [गमन] गमन, गति 'लोगत-गमणा } गमणयाए' (ठा ४, ३), 'पायवंदए पहारेत्य गमणाए' (शाया १, १—पत्र २६) ।

गमणिउज देखो गम = गम् ।

गमणिग स्त्री [गमनिका] १ सक्षिप्त, व्याख्यान, दिग्-दर्शन (राज) । २ गुजारना, अतिक्रमण, 'कालगमणिया एत्य उवाग्री' (उप ७२८ टी) ।

गमणी स्त्री [गमनी] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से आकाश मे गमन किया जा सकता है (शाया १, १६—पत्र २१३) । २ सूता, 'सव्वोवि जणो जलं विगाहि तो उत्तारइ गमणीओ चरणहितो' (मुपा ६१०) ।

गमणीअ देखो गम = गम् ।

गमय देखो गमग (विसे २६७३) ।

गमार वि [दे आम्य] अविदग्ध, मूर्ख (सक्षि ४७) ।

गमाव देखो गम = गमय । गमावइ (सख) ।

गमिअ वि [गमिक] प्रकारवाला (उव १) ।

गमिद वि [दे] १ अपुणं । २ मूढ । ३ स्वलित (पड) ।

गमिय वि [गमित] १ गुनारा हुमा, अतिक्रान्त (गउड) । २ ज्ञापित, बोधित, निवेदित (विने ५५६) ।

गमिय न [गमिक] शास्त्र विशेष, सह्य पाठवाला शास्त्र, 'भग-वाणियाड गमियं सत्ति-सगम च कारणवणेण' (विसे ५४६, ४५४) ।

गमिर वि [गन्तु] जानेवाला (हे २, १४५) ।

गमेत्पि } देखो गम = गम् ।
गमेत्पिणु }

गमेर देखो गमार (सक्षि ४७) ।

गमेम देखो गमेम । गमेमइ (हे ४, १८६) । गमेमनि (कुमा) ।

गम्म वि [गम्भ] १ जानने योग्य । २ जो जाना जा मके (उवर १७०, मुपा ४२६) । ३ हरने योग्य, आक्रमणाय (मुद १२६,

गोयम वि [गौतम] १ गोतम गोत्र मे उत्पन्न, गोतम गोत्रीय, 'जे गोयमा ते सतविहा परणत्ता' (ठा ७, भग ज १) । २ पुं. भगवान् महावीर का प्रधान-शिष्य (भग १४, ७, उवा) । ३ इस नाम का एक राज-कुमार, राजा अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर शत्रुञ्जय पर्वतपर मुक्त हुआ था (अन्त २) । ४ एक मनुष्य-जाति, जो बैल द्वारा शिक्षा माँग कर अपना निर्वाह चलाती है (शाया १, १४) । ५ एक ब्राह्मण (उप ६१७) । ६ द्वीप विशेष (सम ८०, उप ५६७ टी) । 'केसिञ्ज न [केरीय] 'उत्तराध्ययन' सूत्र का एक अध्ययन, जिसमे गौतम स्वामी और केशिमुनि का सवाद है (उत्त २३) । 'समुत्त वि [सगोत्र] गौतम गोत्रीय (भग, भ्राम) । 'सामि पु [स्वामिन्] भगवान् महावीर के सर्व-प्रधान शिष्य का नाम (विपा १, १-पत्र २) ।

गोयमज्जिया } स्त्री [गौतमार्यिका] जैनमुनि-
गोयमेज्जिया } गण की एक शाखा (राज, कप्प) ।

गोयर पु [गोचर] १ गोत्रो को चरने की जगह, 'एो गोयरे एो वणगाणियाण' (बृह ३) । २ विषय, 'अबुद्धगोयरे' रामह संयंभु' (गउड) । ३ इन्द्रिय का विषय, प्रत्यक्ष, 'इम राया उज्जाएणं त कासी नयणगोभर सव्व' (कुमा) । ४ भिक्षाटन, भिक्षा के लिए भ्रमण (शोध ६६ भा, दस ५, १) । ५ भिक्षा, माधुकरी (उप २०४) । ६ वि. भूमि मे विचरनेवाला, 'विम्भरणगोयराण पुलिदाण' (गउड) । 'चरिआ स्त्री [चर्या] भिक्षा के लिए भ्रमण (उप १३७ टी, पउम ४, ३) । 'भूमि स्त्री [भूमि] १ पशुओ को चरने की जगह (दे ३, ४०) । २ भिक्षा-भ्रमण की जगह (ठा ६) । 'वत्ति वि [वत्तिन्] भिक्षा के लिए भ्रमण करनेवाला (गा २०४) । गोयरी स्त्री [गौचरी] भिक्षा, माधुकरी (सुपा २६६) ।

गोर पुं [गौर] १ शुक्ल-वर्ण, सफेद रंग । २ वि गौर वर्णवाला, शुक्ल (गउड, कुमा) । ३ अवदात, निर्मल (शाया १, ८) । 'खर पु

[खर] गर्दभ की एक जाति (परण १) । 'गिरि पु [गिरि] पर्वत-विशेष, हिमाचल (निह १) । 'मिग पु [मृग] १ हरिण की एक जाति । २ न. उस हरिण के चमड़े का बना हुआ वस्त्र (भाचा २, ५, १) ।

गोरअ देखो गोरव (गा ८६) ।

गोरग वि [गौराङ्ग] गोरा शरीरवाला, शुक्ल शरीरवाला (कप्प) ।

गोरफिडी स्त्री [दे] गोधा, गोह, जन्तु-विशेष (दे २, ६८) ।

गोरडित वि [दे] अस्त, ध्वस्त (षड्) ।

गोरव न [गौरव] १ महत्व, गुरुत्व (प्राप् ३०) । २ आदर, सम्मान, बहुमान (विसे ३४७३, रयण ५३) । ३ गमन, गति (ठा ६) ।

गोरविअ वि [गौरचित] सम्मानित, जिसका आदर किया गया हो वह (दे ४, ५) ।

गोरव्व वि [गौरव्य] गौरव-योग्य (धर्मवि ६४, कुप्र ३७७) ।

गोरस पुन [गोरस] गोरस, दूध, दही, मट्ठा या छाछ वगैरह (शाया १, ८, ठा ४, १) ।

गोरस पु [गोरस] बाणी का आनन्द (सिदि १४०) ।

गोरह पु [दे] हल मे जोतने योग्य बैल (भाचा २, ४२, ३) ।

गोरा स्त्री [दे] लाङ्गल-पद्धति, हल-रेखा । २ चधु, अंति । ३ श्रीवा, गर्दन या डोक (दे २, १०४) ।

गोरिं देखो गोरी (हे १, ४) ।

गोरिअ न [गौरिक] विद्यावर का नगर विशेष (इक) ।

गोरी स्त्री [गौरी] १ शुक्ल वर्णा स्त्री (हे ३, २८) । २ पार्वती, शिव-पत्नी (कुमा, सुपा २४०, गा १) । ३ श्रीकृष्ण की एक स्त्री का नाम (अत १५) । ४ इस नाम की एक विद्या-देवी (सति ६) । 'कूड न [कूट] विद्यावर-नगर-विशेष (इक) ।

गोरी स्त्री [गौरी] विद्या-विशेष (सूप्र २, २, २७) ।

गोरुव्व न [गोरुप] प्रशस्त गाय (धर्मवि ११२) ।

गोल पुं [दे] १ सानी (दे २, ६५) । २

पुरुष का निन्दा-गर्भं आमन्त्रण (शाया १, ६) । ३ निष्पुरुता, कठोरता (दस ७) ।

गोल पुं [गोल] १ वृक्ष-विशेष, 'कदम्बोत्त एिहकटप्रतण्णमणे' (अञ्जु ५८) । २ गौना कार, घृताकार, मण्डलाकार वस्तु (ठा ४, ५, अनु ५) । ३ गोलक, कुडा (सुपा २७०) । ४ गेंद, कन्दुक (सूप्र १, ४) ।

गोल पुष्पी [दे] गोला, जार से उत्पन्न, बुड (दस ७, १४) । स्त्री 'ली (दस ७, १६) । गोलग पु [गोलक] ऊपर देखो (सूप्र २, गोलय } २, उप प्र ३६२ काल) ।

गोलव्यायण न [गौलव्यायन] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६) ।

गोला स्त्री [दे] गौ, गैया (दे २, १०४; पाप्र) । २ नदी, कोई भी नदी । ३ सज्जे, सहेली, सगिनी (दे २, १०४) । गोदावरी नदी (दे २, १०४, गा ५८, १७५, हरा २६७, पि ८५, १६४; पाप्र, पद्) ।

गोलिय पु [गौडिक] पुड बनानेवाला (वव ६) ।

गोलिया स्त्री [दे] १ गोली, युटिका (राय, अणु) । गेंद, लडको के खेलने की एक चीज, 'तीए दासीए घडो गोलियाए मिनो' (ववनि २) । ३ बडा कुएडा, दही, थाली (ठा ८) । 'लिछ, 'लिच्छ न [लिच्छ, लिच्छ] १ चुल्ली, चूल्हा । २ धनि विशेष (ठा ८-पत्र ४१७) ।

गोलियायण न [गोलिकायन] १ गोत्र विराय, जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है । २ दि. गोलिकायन-गोत्रीय (ठा ७) ।

गोली स्त्री [दे] मयनी या मयानी, मयनिया, दही मयने की लकड़ी, रही (दे २, ६५) । गोल न [दे] विन्दी-फल, कुन्दरन का फल (शाया १, ८, कुमा) ।

गोल पु [गौल्य] १ देश विशेष (भ्राम) । २ न गोत्र-विशेष, जो कारयप गोत्र की शाखा है । ३ वि गोत्र गोत्र में दन्त (ठा ७) ।

गोलहा स्त्री [दे] विन्दी, वली विटो, कुन्दरन की सतर (दे २, ६५, भ्राम, पाप्र) ।

गोव म [गोपय] १ दिग्गता । २ सगु करना । गोवए, गोवइ (सुपा ३४६, मद्) ।

गरिह देवो गरह । गरिहइ, गरिहामि (महा-पटि) ।

गरिह पु [गर्ह] निन्दा, गर्हा (प्राप्र) ।

गरिहणया देखो गरहणया (उत्त २६, १) ।

गरिहा स्त्री [गर्हा] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा (प्राप ७६१, म १६०) ।

गरु देवो गुरु, 'गरयरगताए रिबिऊण' (सुपा २१४) ।

गरुअ वि [गुरुअ] गुरु, बडा, महान् (हे १, १८६, प्राप्र, प्रासू ३६) ।

गरुअ मक [गुरुकारय] गुरु करना, बडा बनाना । गरुइ (पि १२३),

'हासाण सरोहि सिरो मारिजेइ
अह सराण हनेहि ।

अएणाएण चिअ एए,
अप्पाएण एवर गरुअति'
(हेका २४५) ।

गरुआ } अरु [गुरुकारय] १ बडा
गरुआअ } बनाना । बडे की तरह आचरण
करना । गरमाअ, गरुमाअ (हे ३, १३८) ।

गरुअ नि [गुरुकृत] बडा किया हुआ (से ६ २०, गच्छ) ।

गरुट् स्त्री [गुरी] बडी, ज्येष्ठा, महतो
गरुगी } (हे १, १०७, प्राप्र, निवू १) ।

गरुष देवो गरुअ, 'एणजेणएणएअपसाहिणा
निगएणएणएण' (प्राप) ।

गरुड देवा गरुड (सति १, स २६५, पिग) ।

गरुडरिसेण (पिग) । 'त्य न [गुरु] अत्र-
रिसेण, चरगाअ वा प्रविषकी अत्र (पजम १२,
१३०, ७१, ६६) । 'द्वय पु [ध्वज]

निग, माणुअ (पजम ६१, ५७) । 'वूह पु
[गुरु] गेग की एक प्रकार की रचना
(प्रा, नि ०४) ।

गरुट् पु [गरुटाट्ट] १ पिप्पु, वाणुदेव ।

२ इणएण रस के एक राजा का नाम (पजम
५ ०) ।

गरुट् पु [गरुट्] एव देव विमान (देवेन्द्र
१३४) ।

गरुट् पु [गरुट्] १ पति गुरु, पति-विशेष
(प्रा १ १) । २ पति विशेष, भाना
विशेष का उल्लेख (माउ ८) । ३
प्राण ६३, की एक जाति, सुपणकुमार

देव (पएह १, ४) । ४ सुपणकुमार देवो का
इन्द्र (सूअ १, ६) । 'केउ पु [केतु] देखो

'ज्मय (राज) । 'ज्मय, 'द्वय पु [ध्वज]

१ गरुड पत्नी के चित्रवाली ध्वजा (राय) ।

२ वासुदेव, कृष्ण । ३ देव-जाति-विशेष,
सुपणकुमार देव (आवम, सभ, पि) । 'वूह
देखो गरुड-वूह (ज २), 'सत्य न [शस्त्र]

गरुडाअ, अत्र-विशेष (महा) । 'सिण न
[सिन] आसन-विशेष (राय) । 'ववाय
न [पपात] शास्त्र-विशेष, जिसको याद
करने से गरुडदेव प्रत्यक्ष होते हैं (ठा १०) ।

देखो गरुड ।

गरुधी देखो गरुई (कुमा) ।

गल अक [गल्] १ गल जाना, सडना । २
खतम होना, समाप्त होना । ३ भरना, टप-
कना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना ।

५ सक गिराना, टपकाना, 'जाव रती गलइ'
(महा) । वक्त 'नवेण रस सोएहि गलतम्
असुइरस' (महा, सुर ४, ६८, सुपा २०४) ।

गलित (पएह १, ३, प्रासू ७२) । प्रयो,
वक्त गलावेमाण (एया १, १२) ।

गल पु [गल] १ गला, ग्रीवा, कण्ठ
गलअ } (सुपा ३३, पाअ) । २ बडिया, बंसी,
मछली पकडने का काँटा (उप १८८, विपा १,
८, सुर ८, १४०) । 'गलि स्त्री [गलि]

गले की गर्जना (महा) । 'गलिय न
[गजित] गल-गर्जन (महा) । 'लाय वि
[लाय] गले मे लगाया हुआ, कण्ठ-न्यस्त
(श्रीप) ।

गलई स्त्री [गलई] वनस्पति-विशेष (राज) ।

गलगा देखो गलअ (पएह १, १) ।

गलत्य देवो खिय । गलत्यइ (हे ४, १४३,
नवि) ।

गलत्यण न [क्षेपण] १ क्षेपण करना, फेंकना ।
२ प्रेरण (से ५, ५३, सुपा २८) ।

गलत्यलिअ वि [दे] १ क्षिप्त, फेंका हुआ ।
२ प्रेरित (दे २, ८७) ।

गलत्यल पु [दे] गलहन्, हाथ से गना पक-
टना (एया १, ६, पएह १, ३—पत्र ५३) ।

गलत्यलिअ [दे] देगा गलत्यलिअ (से ५,
४०, ६१) ।

गलत्या स्त्री [दे] प्रेरणा;
'गस्याए चिय भुवरणम्म आवया
न उएा हुति लहुयाए ।
गहकल्लोलगलत्या, ससिसुराए न ताराए'
(उप ७२८ टी) ।

गलत्यिअ वि [क्षिप्त] १ प्रेरित (सुपा
६३५) । २ फेंका हुआ (दे २, ८७, कुमा) ।
३ बाहर निकाला हुआ (पाअ) ।

गलद्वअ पु [दे] प्रेरित, क्षिप्त (पड्) ।

गलहरियअ वि [गलहस्सित] गला पकडकर
बाहर निकाला हुआ (वजा १३८) ।

गलाय देखो गिलाय (नाट—चैत ३४) ।

गलि देखो गल = गल, 'मच्छुव्व गलि गलित्ता'
(वसचू १, ६) ।

गलि } वि [गलि, 'क] दुर्विनीत, दुर्दम
गलिअ } (शा १२, सुपा २७६) । 'गइह
पु [गर्दम] अविनीत गवहा (उत्त २७) ।
'वइह पु [वलीवर्द] दुर्विनीत वैल (कप्पू) ।
'सस पु [श्व] दुर्दम घोडा (उत्त १) ।

गलिअ वि [गलित] १ गला हुआ, पिघला
हुआ (कप्प) । २ क्षालित, प्रक्षालित (कुमा) ।
३ स्वलित, पतित (से १, २) । ४ नष्ट, नाश-
प्राप्त (सुपा २४३, सए) ।

गलिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ (दे
२, ८१) ।

गलिन देखो गल = गल् ।

गलिच वि [गलीय, गलय] गले का (पिड
४२४) ।

गलिय वि [गलिय] निरन्तर पिघलता, टप-
कता, 'बहुसोगगलिरनयणेण' (शा १४) ।

गलुल देखो गरुड (अचु १, पड्) ।

गलोई } स्त्री [गुड्डी] बल्ली विशेष,
गलोया } गिलोय, गुस्व (हे १, १२४, जी
१०) ।

गल पु [गल] १ गाल, कपोल (दे २, ८१,
उग) । २ हाथी का गण्ड-स्थल, कुम्भ स्थल
(पड्) । 'मसुरिया स्त्री [मसुरिका]
गाल का उपचान (जीत) ।

गलक पुन [दे] १ स्फटिक मणि (प्राप, पि
२६६) ।

गलत्य देवो गलत्य । गलत्यइ (पड्) ।

घ पुं [घ] कण्ठ-स्थानोप व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप्त, प्रामा) ।
 घअअद् न [दे] मुकुर, दर्पण (पद्) ।
 घई (अप) अ. पाद-पूरक और अनर्थक अव्यय (हे ४, ४२४, कुमा) ।
 घओअ } पु [घृतोद] १ समुद्र-विशेष, घओद } जिसका पानी घी के तुल्य स्वादिष्ट है (इक, ठा ७) । २ मेघ विशेष (तित्थ) ३ वि जिसका पानी घी के समान मधुर हो ऐसा जलाशय । ओ १आ, १दा (जीव ३, राय) ।
 घंघ पुं [दे] गृह मकान, घर (दे २, १०५) । १साला की [०शाला] अनाथ-भरडप, भिक्षुओं का आश्रय-स्थान (श्रीघ ६३६, वव ७, आचा) ।
 घघल (अप) न [क्रुट] १ भ्रमडा, कलह (हे ४, ४२२) । २ मोह, धबराहट (कुमा) ।
 घघलिअ वि [दे] घबडाया हुआ (सवे ६, धर्मवि १३४) ।
 घंघोर वि [दे] भ्रमण-शील, भटकनेवाला (दे २, १०६) ।
 घच्चिय पु [दे] तेली, तेल निकालनेवाला, गुजराती में 'घाची' (सुर १६, १६०) ।
 घट पुत्री [घण्ट] घण्टा, कास्य-निर्मित वाद्य विशेष (श्रीघ ८६ भा) । ओ १टा (हे १, १६५, राय) ।
 घटिय पु [घण्टिक] चारण्डाल का कुल-देवता, यक्ष विशेष (बृह १) ।
 घंटिय पु [घाण्टिक] घण्टा बजानेवाला (कम्प) ।
 घटिया की [घण्टिका] १ छोटी घण्टी (प्रामा) । २ किकिरी, कुण्ड (सुर १, २४८, ज २) । ३ आभरण-विशेष (साया १, ६) ।
 घस पु [घर्ष] घर्षण, घिसन (साया १, १—पत्र ६३) ।
 घसण न [घर्षण] घिसन, रगड (स ४७) ।
 घसिय वि [घर्षित] घिसा हुआ, रगडा हुआ (श्रीप) ।
 घनकृण देलो घे ।

घग्घर न [दे] घँघरा, घघरा, लहँगा, लियो के पहनने का एक वस्त्र (दे २ १०७) ।
 घग्घर पु [घर्घर] १ शब्द-विशेष (गा०००) । २ खोखला गला, 'घग्घरगलमि' (दे ६, १७) । ३ खोखला आवाज, 'व्यमाणी घग्घरेण-सदेण' (सुर २, ११२) । ४ न श्यादल, शैवाल या तेवार वगैरह का समूह (गडड) ।
 घट्ट सक [घट्ट] १ स्पर्श करना, छूना । २ हिलना, चलना । ३ सघर्ष करना । ४ आहत करना । घट्टइ (सुपा ११६) । वक्क घट्टत (ठा ७) । कवक्क घट्टिज्जन (से २, ७) ।
 घट्ट सक [घट्ट्य] हिलाना । सक घट्टियाण (दस ५, १, ३०) ।
 घट्ट अक [अश्र] अष्ट होना । घट्टइ (पद्) ।
 घट्ट पुं [दे] १ कुसुम्भ रंग से रंगा हुआ वस्त्र । २ नदी का घाट । ३ वेणु, वरा, बाँस (दे २, १११) ।
 घट्ट पु [घट्ट] १ शर्कराप्रभा-नामक नरक-भूमि का एक नरकावास (इक) । २ पुंन जमाव (आ २८) । ३ समूह, जल्पा, 'हयघट्टाइ' (सुपा २५६) । ४ वि गाढा, निबिड, 'मूल घट्टकररुहओ' (सुपा ११) ।
 घट्टसुअ न [दे. घट्टव्यंशुक] वस्त्र विशेष, बूटेदार कौसुम्भ वस्त्र (कुमा) ।
 घट्टण वि [घट्टन] चालाक, हिला देनेवाला (पिड ६३३) ।
 घट्टण न [घट्टन] १ छूना, स्पर्श करना । २ चलाना, हिलाना (दस ४) ।
 घट्टणग पु [घट्टनक] पानवगैरह को चिकना करने के लिए उस पर घिसा जाता एक प्रकार का पत्थर (बृह ३) ।
 घट्टणया } की [घट्टना] १ आघात, आह-घट्टणा } नन (श्रीप, ठा ४, ४) । २ चलन, हिलन (श्रीघ ६) । ३ विचार । ४ पृच्छा (बृह ४) । ५ कदमना, पीडा (आचा) । ६ स्पर्श, छूना (पण १६) ।
 घट्टय देलो घट्ट (महा) ।
 घट्टिय वि [घट्टिन] १ आहत, सघर्ष-युक्त

(जं १) । २ प्रेरित, चालित (पण १, ३) । ३ स्पृष्ट, छुआ हुआ (ज १, राय) ।
 घट्ट वि [घट्ट] १ घिसा हुआ (हे २ १५५, श्रीप, सम १३७) ।
 घड सक [घट्ट] १ चेटा करना । २ करना, बनाना । अक परियम करना । ४ सगत होना, मिलना । घडइ (हे १, १६५) । वक्क घडत, घडमाण (से १, ५, निवू १) । कू. घाडियकन (साया १, १—पत्र ६०) ।
 घड सक [घट्ट्य] १ मिलाना, जोड़ना, सयुक्त करना । २ बनाना, निर्माण करना । ३ सचालन करना । घडेइ (हे ५, ५०) । भवि. घडिस्तामि (स ३६४) । वक्क घडत (सुपा २५५) । सक. घडिअ (दस ५, १) ।
 घड पु [घट] घडा, कुम्भ, कलस (हे १, १६५) । १कार पु [कार] कुम्भकार, मिट्टी का बरतन बनानेवाला (सप पु ४१५) । १चेडिया स्त्री [०चेटिना] पानी भरनेवाली दासी, पनहारिन (सुपा ४६०) । १दास पु [०दास] पानी भरनेवाली नौकर, पनहारिण प्राचा) । १दासी स्त्री [०दासी] पानी भरनेवाली, पनहारिणी (सूत्र १, १५) ।
 घड वि [दे] सठीकृत, बनाया हुआ (पद्) ।
 घडइअ वि [दे] सकुचित (पद्) ।
 घडग पु [घटक] छोटा घडा (ज २, अणु) ।
 घटगार देलो घड-गार (वन १) ।
 घडचडग पु [घटचटक] एक हिंसा प्रयाण संप्रदाय (मोह १००) ।
 घडण कीन [घटन] १ घटना, प्रसंग (दि १३) । २ अन्वय, संवध (वेद्य ५६७) ।
 घडण न [घटन] १ घटना या घटना, इति, निमाण (से ७, ७१) । २ दल, चेटा, परि-यम (अनु ५, पण २, १) ।
 घडणा की [घटना] मिलान, मेल, मंजो (सूत्र १, १, १) ।
 घडय देलो घडग (जं २) ।
 घडा की [घटा] समूह, जल्पा (गडड) ।

गह—गाडिअ

गह न [गृह] घर, मकान । °वइ पु [°पति] गृह्य, गृही, संसारी (पउम २०, ११६, प्राप्र) । °वइणी वी [°पत्नी] गृहिणी, वी (सुपा २२६) ।

गहइडोल पु [दे. ग्रहकडोल] राह, ग्रह-निशेप (दे २, ८६, पाप्र) ।

गहइ गक [दे] हपं से भर जाना, आनन्द-पूर्ण होना । गहइहइ (भवि) ।

गहण न [ग्रहण] १ आदान, स्वीकार (से ४, २२, प्राप्र १४) । २ आदर, सम्मान । ३ ज्ञान, अवबोध (मे ४, ३३) । ४ शब्द, आवाज (आचा २, ३, ३, प्रावम) । ५ वि. ग्रहण करनेवाला । ६ न इन्द्रिय (विसे १७०७) । ७ चन्द्र-सूर्य का उपराग—ग्रहण (भग १२, ६) । ८ वि. ग्राह्य, जिमका ग्रहण किया जाय वह (उत्त ३२) । ९ न शिक्षा-निशेप (प्राप्र) ।

गहण न [ग्राहण] ग्रहण कराना, अग्रीकार कराना, 'जो ग्रामि वमचेरगहणएणुळ' (कुपा) ।

गहण १ [ग्रहण] १ आदान का कारण । २ शोषण, 'चम्पुत्ता ह्य गहणं वर्यति' (उत्त ३२, २२) ।

गहण १ [ग्रहन] अरण्य-क्षेत्र (आचा २, ३, ३, १) । °विदुग्ग न [°विदुर्ग] पर्वत के ए प्रदेग मे स्थित वृत्-पत्नी ममुदाय (सूत्र २, २, ८) ।

गहण वि [ग्रहन] १ निम्न, दुर्गन्ध, दुर्गन्ध, 'गने प्रणइणहणे जोणंगहणम्मि भोनणे दप' (जी ४६), 'फनमारणलियगहणा' (उत्त) । २ वन, माटी, पना तानन (पाप्र, ५१) । ३ वृत्-पत्नी, वृत् वा गोटर (विपा १, २—प ४६) ।

गहण १ [दे] १ निम्न-स्थान, जल-रहित स्थल (दे २, ८२, आचा २, ३, ३) । २ वन परगण निस्वी (सुपा ५ ८८) ।

गहण १ [दे] गहण, माहण (सुपा १५४) ।

गहण वी [ग्रहण] ग्रहण, स्वीकार, उपा-दान (प्राप्र) ।

गहण वी [ग्रहणी] ग्रहण, स्वीकार (प्राप्र १, ६५) ।

गहणी वी [ग्रहणी] कुक्षि, पेट (पव १०६) ।

गहणी वी [दे] जवरदस्ती हरण की हुई वी, वदी या वदी (दे २, ८४, से ६, ४७) ।

गहस्थि पु [गभस्ति] किरण, त्विड (पाप्र) ।

गहर पु [दे] गृध्र, गीघ-पत्नी (दे २, ८४, पाप्र) ।

गहर पुन [गह्वर] १ निकुज । २ वन, जगल । ३ दम, कपट । विपम-स्थान । ५ रोदन । ६ गुफा । ७ अनेक अर्थों का सकट, 'गहरो' (प्राप्र २४) ।

गहवइ पु [गृहपति] कृपक, खेती करनेवाला (पाप्र) ।

गहवइ वि [दे] १ ग्रामीण, गाँव का रहने-वाला (दे २, १००) । २ पु चन्द्रमा, चाँद (दे २, १००, पाप्र, वाप्र १५) ।

गहिअ वि [दे] वक्रित, मोटा हुआ, टेढा, किया हुआ (दे २, ८५) ।

गहिअ वि [गृहीत] १ उपात्त, स्वीकृत (श्रीप, ठा ४, ४) । २ पकड़ा हुआ (परह १, ३) । ३ ज्ञात, उपलब्ध, विदित (उत्त २, पड) ।

गहिअ वि [गृह] ग्रामक, तल्लीन (आचा) ।

गहिआ वी [दे] १ काम-भोग के लिए जिसकी प्रार्थना की जाती हो वह वी (दे २, ८५) । २ ग्रहण करने योग्य वी (पड) ।

गहिर वि [गभीर] गहरा, गम्भीर, अस्ताव (दे १, १०१, काप्र ६२५, कप्य, गडड, श्रोप, प्राप्र) ।

गहिल वि [ग्रहिल] भूतादि से आविष्ट, पागल (था १४) ।

गहिलिय } वि [दे ग्रहिल] आवेश युक्त,
गहिलिह } पागल, आन्त-चित्त (पउम ११३, ५३, पड, था १२, उप ५६७ टी, भवि) ।

गहीअ देगो गहिअ = गृहीत (था १२, रयण ६८) ।

गहीर देगो गभीर (प्राप्र ६) ।

गहीरिअ न [गाभीर्य] गहराई, गम्भीरपन (हिं २, १०७) ।

गहीरिम पुष्ठी [गभीरिमन्] गहराई, गम्भीरता (हिं ४, ४१६) ।

गहेअन्न } देगो गह = ग्रह ।
गहेउ }

गहण (अप) देखो गह = ग्रह । गहइ (पड) ।

गा } सक [गै] १ गाना, आलापना । २
गाअ } वरान करना । ३ श्लाघा करना ।

गाइ, गाअइ (हिं ४, ६) । वक्र. गत, गाअत, गायमाण (गा ५४६, पि ४७६, पउम ६४, २४) । कवक गिज्जत (गडड, गा ६४२, सुपा २१, सुर ३, ७६) । सक, गाइउ (महा) ।

गाअ पु [गो] वैल, वृषभ, साँड (हिं १, १५८) ।

गाअ न [गात्र] १ शरीर, देह (सम ६०) । २ शरीर का अवयव (श्रीप) ।

गाअ वि [गायक] गानेवाला (कुमा) ।

गाअर पु [गवाइ] महादेव, शिव (कुमा) ।

गाअय वि [गायन] गानेवाला, गवेया (सुपा ५५, सण) ।

गाइअ वि [गीत] १ गाया हुआ, 'किन्नरेण तो गाइय गीय' (सुपा १६) । २ न गीत, गान, गाना (आव ४) ।

गाइआ वी [गायिका] गानेवाली वी (गा ६४४) ।

गाइर वि [गायक] गानेवाला, गवेया (सुपा ५४) ।

गाई वी [गो] गैया, गौ (हिं १, १५८, दे ४, १८, गा २७१, सुर ७, ६५) ।

गाउ } न [गव्यूत] १ कोस, क्रोश, दो
गाउअ } हजार वनुप-प्रमाण जमीन (पि
गाउअ } २५४, श्रोप, इक जी १८, विसे
८२ टी) । २ दो कोस, क्रोश-शुभ (श्रोप १२) ।

गागर पु [दे] वी को पहनने का वक्र-विशेष, लहंगा, घँघरा या घाँघरा, गुजराती मे 'घाघरो' (परह १, ४) । २ मत्स्य-विशेष (परण १) ।

गागरी [दे] देखो गायरी (पि ६२) ।

गागलि पु [गागलि] एक जैनमुनि (उत्त १०) ।

गागेज्ज वि [दे] मथित, मया हुआ, आलो-डित (दे २, ८८) ।

गागेज्जा वी [दे] नवोदा, दुलहिन (दे २, ८८) ।

गाडिअ वि [दे] विधुर, विमुक्त (दे २, ८३) ।

घय न [घृत] घी, घृत (हे १, १२६, मुर १६, ६३)। °आसव पु [°अव] जिसका वचन घी की तरह मधुर लगे ऐसा लब्धिमात्र पुरुष (आवम)। °किट्ट न [°किट्ट] घी का मेल (वर्म २)। °किट्टिया स्त्री [°किट्टिका] घी का मेल (पव ४)। °गोल न [°गौल] घी और गुड की बनी हुई एक प्रकार की मिठाई, मिष्ठान्न विशेष (सुपा ६३३)। °घट्ट पुं [°घट्ट] घी का मेल (बृह १)। °गुन्न पु [°पूर] घेवर, मिष्ठान्न विशेष (उप १४२ टी)। °पूर पु [°र] घेवर या घीवर, मिष्ठान्न-विशेष (सुपा ११)। °पूसमित्त पु [°पुष्यमित्त] एक जैन मुनि, आर्यरक्षित सूरि का एक शिष्य (आचू १)। °भंड पु [°मण्ड] ऊपर का घी, घृतसार (जीव ३)। °सिल्लिया स्त्री [°इलिका] घी का कीट, क्षुद्र जन्तु-विशेष (जो १६)। °मेह पु [°मेघ] घी के तुल्य पानी बरसने वाली वर्षा (ज ३)। °वर पु [°वर] द्वीप-विशेष (इक)। °सागर पु [°सागर] समुद्र-विशेष (दीव)।

घयण पुं [दे] भाएड, भंडा, भडवा (उप घृ २०४, २७५, पचव ४)।

घयपूस पुं [घृतपुष्य] एक जैन महर्षि (कुलक २२)।

घर पुन [गृह] घर, मकान, गृह (हे २, १४४, ठा ५, प्रासू ७५)। °कुडी स्त्री [°कुटी] १ घर के बाहर की कोठरी। २ चौक के भीतर की कुटिया (श्लो १०५)। ३ स्त्री का शरीर (तदु)। °कोइला, °कोइलिआ स्त्री [°कोकिला] गृहगोषा, छिपकली (पिंड, सुपा ६४०)। °गोली स्त्री [°गोली] गृह-गोषा, छिपकली (दे २, १०५)। °गोहिआ स्त्री [°गोघिका] छिपकली, जन्तु-विशेष (दे २, १६)। °जामाउय पु [°जामाउक] घर-जमाई, समुद्र घर में ही हमेशा रहनेवाला जामाता (एया १, १६)। °स्थ पुं [°स्थ] गृही, ससारी, घरबारी (प्रासू १३१)। °नाम न [°नामन्] असली नाम, वास्तविक नाम (महा)। °वाडय न [°पाटक] ढकी हुई जमीन वाला घर (पाप्र)। °वार न [°द्वार] घर का दरवाजा (काप्र १६५)। °सउणि

पुं [°शकुनि] पालतू जानवर (वव २)। °समुदाणिय पु [समुदानिक] आजीविक मत का अनुयायी साधु (औप)। °सामि [°स्वामिन्] घर का मालिक (हे २, १४४)। °सामिणी स्त्री [°स्वामिनी] गृहिणी, स्त्री (पि ६२)। °सूर [°शूर] अलीक शूर, झूठा शूर, घर में ही बहादुरी दिखानेवाला (दे)।

घरगण न [गृहाङ्ग] घर का आंगन, चौक (गा ४४०)।

घरकूडो स्त्री [गृहकूटो] स्त्री-शरीर (तदु ४०)।

घरग देखो घर (जीव ३)।

घरघट पु [दे] चटक, गौरैया पक्षी (दे २, १०७, पाप्र)।

घरघरग पुं [दे] गला का आभूषण-विशेष (ज १)।

घरट्ट पु [वरट्ट] जाता, चक्की, अन्न पीसने का पाषाण यन्त्र (गा ८००, सए)।

घरट्ट प [दे] अरघट्ट, अरहट्ट, पानी का चरखा (निचू १)।

घरट्टी स्त्री [घरट्टी] शतभ्री, तोप (दे ३, १०)।

घरणी देखो घरिणी, 'त वरघरणि वरणि व' (७२८ टी, प्रासू ४५)।

घरयद पु [दे] आदर्श, दर्पण, शीशा (दे २, १०७)।

घरस पु [दे गृहवास] गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम (बृह ३)।

घरसण देखो घसण (सए)।

घरित वि [गृहवत्] घरवाला, गृहस्थ (प्राठ ३५)।

घरिणी स्त्री [गृहिणी] घरवाली, स्त्री, भार्या, पत्नी (उप ७२८ टी, मे २, ३८, मुर २ १००, कुमा)।

घरिह पु [गृहिन्] गृही, समारो, घरबारी (गा ७३६)।

घरिह्हा स्त्री [गृहिर्हा] घरवाली, स्त्री, पत्नी (कुमा)।

घरिह्ही स्त्री [दे गृहिणी] गृहिणी, पत्नी (दे २, १०६)।

घरिस पुं [घर्ष] घर्षण, रगड (एया १, १६)।

घरिसण न [घर्षण] घर्षण, रगड (सए)। घरोइला स्त्री [दे] गृहगोषा, छिपकली, विन्तु इया (पि १६८)।

घरोल न [दे] गृह-भोजन विशेष (दे २, १०६)।

घरोलिया } स्त्री [दे] गृहगोषिका, छिपकली,
घरोली } गुजराती में 'घरोली' (पह १, १, दे २, १०५)।

घलघल पु [घलघल] 'घल-घल' आवाज, ध्वनि-विशेष (विपा १, ६)।

घल सक [चिप्] फेंकना, डालना, घालना। घलड, घलति (भवि, हे ४, ३३४, ४२२)।

घल वि [दे] अनुरक्त, प्रेमी (दे २, १०५)।

घलय } पु [दे] द्वीन्द्रिय जोष की एक
घलोय } जाति (सुव ३६, १३०, उत ३६, १३०)।

घल्लिअ वि [क्षिम] फेंका हुआ, डाला हुआ (भवि)।

घल्लिअ वि [दे] घटित, निर्मित, किया हुआ, 'अइठ्ठेण तेणवि घल्लिओ तिकखल्लण्णुत्थामा' (सुपा २४६)।

घस सक [घृप्] १ घिसना, रगडना। २ मार्जन करना, सफा करना। घसइ (महण पद्) सक 'घसिऊण अरणिणद्ध षगो पज्जालिओ मए पच्छा' (मुर ७, १८६)।

घस स्त्रीन [दे] १ फटी हुई जमीन, फाटवाली भूमि (आचा २, १०, २)। २ गुदिर भूमि, पोली जमीन। ३ क्षार भूमि (दस ६, ३२)।

घसण देखो षसण (सुपा १४, दे १, १६६)।

घसणिअ वि [दे] अन्विष्ट, गवेपित (पद्)।

घसणी स्त्री [घर्षणी] सघ-रेखा, रेती सरीर (स ३५७)।

घसा स्त्री [दे] १ पोली जमीन। २ भूमि-रेखा, लकीर (राज)।

घसिय वि [घृष्ट] घिसा हुआ, रगडा हुआ (दमा ५)।

घसिर वि [असिन्] बहु-भयक, बहुत डालने-वाला (श्लो १३३ भा)।

घसी स्त्री [दे] १ भूमि-राजि, सरीर। २ नीचे उतरना, अचतण (राज)।

घसी स्त्री [दे] जमीन का लज्जर, धान (आचा २, १, ५, ३)।

गारिहृदिय क्रीन [गार्हृदिय] गृहस्थ-सवन्वो, संभारि मवन्वो । स्त्री, °या (पव २३५) ।
 गान्ड } वि [गारुड] १ गरुड-सवन्वो ।
 गारुड } २ मर्ष के विप को उतारनेवाला, मर्ष विप को दूर करनेवाला । ३ पु सर्थ विप को दूर करनेवाला मन्त्र (उप ६६६ टी. से १४, ५७) । ४ न शास्त्र विशेष, मन्त्र शास्त्र-निशेष, मर्षविप नाशक मन्त्र का जिसमें वर्णान् हो वह शास्त्र (ठा ६) । °भक्त पु [°मन्त्र] मर्ष-विप का नाशक मन्त्र (सुपा २१६) । °विज वि [°विन्] गारुड मन्त्र का जानकार, गान्ड शास्त्र का जानकार (उप ६६६ टी) ।
 गाल सक [गाल्य] १ गालना, छानना । २ मारु करना । ३ उल्लघन करना, अतिक्रमण करना । गालयद् (विमे ६४) । वक्त्र गालेमाण (भग ६, ३३) । क्वक्त्र गालि-ज्जत (सुपा १७३) प्रयो गालावेइ (साया १, १२) ।
 गालण न [गालन] छालना, गालना (परह १, १. उज पृ ३७६) ।
 गालणा स्त्री [गालना] १ गालना, छानना । २ गिर्याना । ३ पिघलवाना (विपा १, १) ।
 गालवाडिया स्त्री [दे] छोटी नौका, डोंगी, 'एथंनरम्मि ममागया गालवाडियाए निजा-मया' (म ३४१) ।
 गालि स्त्री [गालि] गानी, गारी, अपराध, पतन्य वान (सुपा ३७०) ।
 गालिय वि [गालिन] १ छाना हुआ । २ पतिमा ३ । ३ विनाशित । ४ विना, 'गानिय-निडा विरुगुना विपरियो रायहृत्वी' (महा) ।
 गाली स्त्री [गाली] देगी गालि (पव ३८) ।
 गार (पन) रगो गा । गारु (पिग) । वक्त्र गारुन (वि २४८) ।
 गार (पन) रगो गारु (पवि) ।
 गारि [र] गार, गया एमा, उतरा हुआ (प ११) ।
 गारि } पु [गारु] १ पत्थर, पापाए
 गारु } (गम) । २ पत्थर, गिरि (हे ३, २५) ।
 गारु (पन) गारु गारु (मंत्र) ।
 गारु } [ग] स्त्री, देवा (हे ३, १७८. विना १. पन) ।

गास पु [ग्रास] ग्रास, कवल (सुपा ४८८) ।
 गास पुं [ग्रास] भोजन (पव ६५) ।
 गाह देखो गह = ग्रह । कर्म गाहिज्ज (प्राप्र) ।
 गाह सक [ग्राह्य] ग्रहण कराना । गाहेइ (श्रौप) ।
 गाह सक [गाह] १ गाहना, ढूँढना । २ पढना, अभ्यास करना । ३ अनुभव करना । ४ टोह लगाना । गाहदि (शौ), (मृच्छ ७२) । क्वक्त्र गाहिज्जत (वजा ४) ।
 गाह पु [गाध] अस्ताध-रहित, धाह (ठा ४, ४) ।
 गाह पु [ग्राह] १ गाह, कुभीर, नरु, जल-जन्तु-विशेष, मगर (दे २, ८६. साया १, ४. जी २०) । २ ग्राग्रह, हठ (विसे २६८६, पचम १६, १२) । ३ ग्रहण, आदान (निचू १) । ४ गारुडिक, सर्प को पकड़नेवाली मनुष्य-जाति (वृह १) । °वई स्त्री [°वती] नदी-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।
 गाहग वि [ग्राहक] १ ग्रहण करनेवाला, लेनेवाला (सुपा ११) । २ समझनेवाला, जाननेवाला (सुपा ३४३) । ३ समझनेवाला, शिक्षक, आचार्य, गुरु (श्रौप) । ४ ज्ञापक, बोधक । स्त्री गाहिगा (श्रौप) ।
 गाहक वि [ग्राहक] प्राप्ति करनेवाला, 'गाहग सयलपुणाय' (स ६८२) ।
 गाहण न [ग्राहण] १ ग्रहण कराना । २ ग्रहण, आदान, 'गाहण तवचरियस्सा गहण चिय गाहणा होति' (पचमा) । ३ शास्त्र, सिद्धान्त (वव ४) । ४ बोधक-वचन, शिक्षा, उपदेश (परह २, २) ।
 गाहणया } स्त्री [ग्राहणा] ऊपर देखो (उप
 गाहणा } पृ ३१४, आचा, गच्छ १) ।
 गाह्य देखो गाहग (विमे ८३१, स ४६८) ।
 गाहा स्त्री [गाया] अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरण (उत्त ३१, १३) ।
 गाहा स्त्री [गाया] १ छन्द-विशेष, आर्या, गीति (ठा ५, २. अजि ३७, ३८) । २ प्रतिष्ठा । ३ निवय 'सिमपयाए य गाहा' (पाप ४) । ४ 'मूयटवारा' मूय का सोनहवां पत्रयन (सुप १, १, १) ।
 गाहा स्त्री [दे] गृह, घर, मकान, 'गाहा घरं निर्निवि एण्डा' (पव ८) । °वड पुस्त्री

[°पति] १ गृहस्थ, गृही, ससारी (ठा ४, ४. सुपा २२६) । २ घनी, (उत्त १) । ३ मजारी, भारजागारिक (सम २७) । स्त्री °णी (साया १, ५. उवा) ।
 गाहाल पु [ग्राहाल] कीट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु विशेष (जीव १) ।
 गाहावई स्त्री [ग्राहावती] १ नदी-विशेष । २ द्वीप-विशेष । ३ हृद-विशेष, जहाँ से ग्राहावती नदी निकलती है (ज ४) ।
 गार्हाविय वि [ग्राहित] जिसको ग्रहण कराया गया हो वह (सुर ११, १८३) ।
 गाहिणी स्त्री [गाहिनी] १ गाहने वाली स्त्री । २ छन्द-विशेष (पिग) ।
 गाहिपुर न [गाधिपुर] नगर-विशेष (गउड) ।
 गाहिय वि [ग्राहित] १ जिसको ग्रहण कराया गया हो वह । २ भ्रामित, उकसाया हुआ (सुप्र १, २, १) ।
 गाहीकय वि [गाथीकृत] एकत्रित, इकट्ठा किया हुआ (सुप्र १, १६) ।
 गाहु स्त्री [गाहु] छन्द-विशेष (पिग) ।
 गाहुलि पुस्त्री [दे] ग्राह, नरु, मगर, क्रूर जल-जन्तु विशेष (दे २, ८६) ।
 गाहुडिया देखो गाहा = गाथा (सुपा २६४) ।
 गिंठि [गुट्टि] १ एक बार व्यायी हुई । २ एक बार व्यायी हुई गाय (हे १, २६) ।
 गिंधुअ [दे] देखो गेंठुअ (पाप्र) ।
 गिंधुल [दे] देखो गेंठुल (पाप्र) ।
 गिभ (अप) देखो गिह (हे ४, ४४२) ।
 गिंह देखो गिह (पड) ।
 गिज्जत देखो गा ।
 गिज्जक अक [गृध] आसक्त होना, लम्पट होना । गिज्जक (हे ४, २१७) । गिज्जक (साया १, ८) । वक्त्र गिज्जक (श्रौप) । क. गिज्जकयव (परह २, ५) ।
 गिज्जक वि [गृध, ग्राह] १ ग्रहण करने योग्य । २ अपनी तरफ में किया जा सके ऐसा (ठा ३, २) ।
 गिद्धि देनी गिठि, 'वारंत्सवनि वला दिद्धि गिद्धिज्ज जवमन्नि' (उप ७२८ टी. पाप्र, गा ६४०) ।
 गिद्धिया स्त्री [दे] गेहो, गेंद खेनने की लकड़ी (पव ३८) ।

चित्त (अप) वि [क्षिप्त] फेंका हुआ, डाला हुआ (भवि)।
 चित्तमण वि [ग्रहीतुमन्स] ग्रहण करने की इच्छावाला (सुपा २०६)।
 चित्तूण } देखो वि।
 चित्प }
 चिस सक [अस्] प्रसना, निगलना, भक्षण करना। चिसइ (हे ४, २०४)।
 चिसरा ली [दे] मछली पकड़ने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।
 चिसिअ वि [अस्त] कवलित, निगला हुआ, भक्षित (कुमा ७, ४६)।
 घुघुळ पु [दे] उल्कर, ढग, ढेर, समूह (दे २, १०६)।
 घुट पु [दे] बूँट, एक बार पीने योग्य पानी आदि (हे ४, ४२३)।
 घुग्घ } (अप) पुंन [घुग्घिअ] कपि-वेष्टा,
 घुग्घिअ } बन्दर की चेष्टा (हे ४, ४२३, कुमा)।
 घुग्घळण न [दे] खेद, तकलौफ, परिधम (दे २, ११०)।
 घुग्घुरि पुं [दे] मयहक, मेक, मेहक (दे २, १०६)।
 घुग्घुस्सुअ वि [दे] नि शक होकर गया हुआ (पट्)।
 घुग्घुस्सुसय न [दे] साशक वचन, आशक-युक्त वाणी (दे २, १०६)।
 घुग्घुघुघुअ अक [घुग्घुघुघुअ] 'घुघु' आवाज करना, धूक या उल्लू का बोलना। वक्र घुग्घुघुघुघुघुघु (पठम १०५, ५६)।
 घुग्घुअ अक [घुग्घुअ] ऊपर देखो। वक्र घुग्घुअ (शाया १, ८—पत्र १३३)।
 घुट्टा पुं [घुट्टाअ] लिपे हुए पात्र को चिलने का पत्थर (पिंड १५)।
 घुट्टुघुणिअ न [दे] पहाड़ की बड़ी शिला (दे २, ११०)।
 घुट्टु वि [घुट्टु] घोषित, ऊँची आवाज से जाहिर किया हुआ (पठम ३, ११८, भवि)।
 घुट्टुअ अक [गर्ज] गरजना, गर्जित्व करना। घुट्टुअ (हे ४, ३६५)।
 घुण पु [घुण] काष्ठ-भक्षक कीट, घुन (अ ४, १, विसे १५३६)।

घुणहुणिआ } ली [दे] कर्णोपकर्णिका,
 घुणाहुणी } कानाकानी (दे २, ११०, महा)।
 घुणिय वि [घुणित] घुणी से विद्ध, घुना हुआ (वह १)।
 घुणण देखो घुम्म। वक्र घुणणत (नाट)।
 घुणिअ वि [घुणित] १ घुमा हुआ। २ भाल्, भटका हुआ (दे ८, ४६)।
 घुत्तिअ वि [दे] गवेपित, अन्वेपित, लोजा हुआ (दे २, १०६)।
 घुन्न } देखो घुम्म। घुमइ (पिय)। वक्र.
 घुम } घुन्नत (परह १, ३)।
 घुमघुमिय वि [घुमघुमित] १ जिसने 'घुम-घुम' आवाज किया हो वह। २ न 'घुम-घुम' ध्वनि: 'महुरगभीरघुमघुमियवरमहल' (सुपा ५०)।
 घुम्म अक [घुर्ण] घुमना, चक्राकार फिरना। घुम्मइ (हे ४, ११७, पट्)। वक्र घुम्मत, घुम्ममाण (हेका ३३, शाया १, ६)। सक्क घुम्मिऊण (महा)।
 घुम्मण न [घुर्णन] चक्राकार भ्रमण (कुमा)।
 घुम्माविअ वि [घुर्णित] घुमाया हुआ (बजा १२२)।
 घुम्मिय वि [घुर्णित] घुमा हुआ, चक्र की तरह फिरा हुआ (सुपा ६४)।
 घुम्मिर वि [घुर्णित] घुमनेवाला, फिरनेवाला, चक्राकार घुमनेवाला (उप पृ ६२, गा १८०; गठड)।
 घुयग पु [दे] एक तरह का पत्थर, जो पात्र वगैरह को चिकना करने के लिए उस पर पिसा जाता है, खराद या चरली (पिंड)।
 घुरहुर देखो घुरघुर। वक्र घुरहुरत (आ १२)।
 घुरुअ अक [दे] घुरकना, घुडकना, गरजना। 'घुरकति अग्घा' (महा)।
 घुरुकार पुं [घुरुकार] सूमर आदि की आवाज (कियात ६)।
 घुरुघुर अक [घुरुघुराअ] घुरघुराना, 'घुर-घुर' आवाज करना, ब्याध वगैरह का बोलना। घुरुघुरति (पि ५५८)। वक्र घुरुघुरायंत (सुपा ५०५)।

घुरुघुरि पु [दे] मयहक, मेहक, नेक, वेत (दे २, १०६)।
 घुरुघुरु } देखो घुरुघुर। घुरहुरत (महा)।
 घुरुहुर } वक्र घुरुघुरुमाण (महा)।
 घुल देखो घुम्म। घुमइ (हे ४, ११७)।
 घुलिकि ली [दे] हाथी की आवाज, कौर-रुम (पिंग)।
 घुलघुल अक [घुलघुलाअ] 'घुन पुं' आवाज करना। वक्र घुलघुलाअमाण (पि ५५८)।
 घुलिअ वि [घूर्णित] चक्राकार घुमा हुआ (कुमा)।
 घुल्ल ली [दे] कीट-विशेष, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (परह १)।
 घुसण देखो घुसिण (कुमा)।
 घुमल सक [मअ] मथना, विसाटना। घुसलइ (हे ४, १२१)।
 घुसलिअ वि [मयित] मयित, विनाशित (कुमा)।
 घुसिण न [घुसण] कुकुम, सुगन्धित द्रव्य-विशेष, केसर (हे १, १२८)।
 घुसिणल वि [घुसणन] कुकुमगान, कुकुम-युक्त (कुमा)।
 घुसिणिअ वि [दे] गवेपित, अन्विट (दे २, १०६)।
 घुसिम न [दे] घुखरा, कुकुम (पट्)।
 घुसिरमार न [दे] अवस्तान, विगाह के धन सर में स्तान के पहने लगाया जाता मनुष्य का पिञ्जान, उबटन (दे २, ११०)।
 घुसुल देखो घुसल। वक्र घुसुलत, घुमुल्लि (पिंड ५८७, ५७३)।
 घुसुलण न [मयन] निनोहन (पिंड ५०२)।
 घूअ पुत्री [घूअ] उल्लू, उल्लू, पवि विशेष (शाया १, ८, पठम १०५, ५६)। ली घूअ (विपा १, ३)। 'गिरि पु [गिरि] काट, गंगा, वायस (नट्टु)।
 घूणाग पु [घूणाअ] म्वनाम-व्यात गन्धित-विशेष, आम-विशेष (आपू १)।
 घूरा ली [दे] १ जपा, जोंप। २ कन्द, शरीर का धारण विशेष, 'गदमाण वा घूराणे कम्मति' (सूम २, २, ५५)।
 घे देखो गह = गह। वेद (पट्)। अदि.

गिहिकोइला—गुदल

गिहिकोइला स्त्री [गृहकोकिला] गृहगोवा,
छिपान्नी (स ७५८) ।

गिहमेहि पु [गृहमेधिन्] गृहस्य (घर्मवि
२६) ।

गिहपु पु [गृहपति] देश का अधिपति, सूवे-
दार, 'तह गिहवईवि देस्स नायगो' (पव ८५) ।

गिह पु [गृहिन्] गृही, ससारी, गृहस्य
(श्रोप १७ भा, नव ४३) । °धम्म पु

[°धर्म] गृहस्य घर्म, श्रावक-घर्म (राज) ।
°लिंग न [°लिङ्ग] गृहस्य का वेश (वृह १) ।

गिहिणी स्त्री [गृहिणी] गृहिणी, माया, स्त्री
(मुपा ८३, था १६) ।

गिहीअ नि [गृहीत] आत, उपात, ग्रहण
किया हुआ (स ४२८) ।

गिहेलुग देगो गिहेलुय (आचा २, ५, १, ८) ।

गिहेलुय पु [गृहेलुक्] देहली, द्वार के नीचे
धी लकड़ी (निचू १३) ।

गी स्त्री [गिर्] वाणी, भाषा, वाक्,
'धिरमुज्जल च छायाघण च गीविलमिय
म्म' (तउड) ।

गीआ श्री [गीता] श्रीमद्भगवद्गीता, ज्ञानमय
उदेश, छन्द विशेष (पिग) ।

गाड श्री [गीति] १ छन्द-विशेष, आर्या-वृत्त
का एक भेद । २ गान, गीत (ठा ७, उप
१३० टी) ।

गीडगा स्त्री [गीतिगा] जपर देतो (श्रीप,
गाया १, १) ।

(श्रोप) । २ पु गन्धर्व देवों का एक इन्द्र
(इक, भग, ३, ८) । ३ गन्धर्व सेना का
अधिपति देव-विशेष (ठा ७) । ४ वि. सगीत
प्रिय, गान-प्रिय (विपा १, २) ।

गीवा स्त्री [गीवा] कण्ठ, गरदन (पात्र) ।

गुछ देखो गुच्छ (हे १, २६) ।

गुछा स्त्री [दे] १ विन्दु । २ दाढ़ी-मूँछ । ३
अधम, नीच (दे २, १०१) ।

गुज अक [हस्] हँसना, हास्य करना ।
गु जइ (हे ४, १६६) ।

गुज अक [गुञ्] १ गुन गुन करना, अमर
आदि का आवाज करना । २ गर्जना, सिंह
वगैरह का आवाज करना, 'गु जति सीहा'
(महा) । वक्क गुजत (साया १, १—पत्र
५ रंभा) ।

गुज पु [गुञ्] १ गुञ्जारव करता वायु (पउम
१३, ४३) । २ पर्वत-विशेष, 'गु जवरपव्वय
ते' (पउम ८, ६०, ६४) ।

गुजा स्त्री [गुजा] १ लता विशेष (सुर २,
६) । २ फल विशेष, घुँघची (साया १, १,
गा ३१०) । ३ भम्मा, वाय-विशेष (आचा) ।
४ परिराम-विशेष (ठा ४, १) । ५ गुञ्जारव,
गु जन, गुन-गुन आवाज, 'गु जाचक्ककुह-
रोवपूढ' (साय) । ६ वायु-विशेष, गुञ्जारव
करनेवाला वायु (जीव १, जी ७) °फल,
°हल न [°फल] फल-विशेष, घुँघची (सुर

गुजेळिअ वि [दे] पिएडीकृत, इकट्टा किया
हुआ (दे २, ६२) ।

गुजोळ सक [वि + लुल्] बिखेरना । गुंजो-
ल्लइ (प्राक्क ७३) ।

गुजोळ अक [उत् + लस्] उल्लास पाना,
विकसित होना । गु जाल्लइ (हे ४, २०२) ।

गुजोळिअ वि [उल्लसित] विकसित, विक-
सित (कुमा) ।

गुठ सक [उद् + धूल्य्, गुण्ठ्] धूल
वाला करना, धूलों के रंग का करना, धूस-
रित करना । गुठइ (हे ४, २६) । वक्क.

गुठत (कुमा) ।

गुठ पु [दे] अधम अश्व, दुष्ट घोडा (दे २,
६१, स ४५४) । २ वि मायावी, कपटी
(वव ३) ।

गुठा स्त्री [दे] माया, दम्भ, छल (वव ३) ।

गुठिअ वि [गुण्ठित] १ बूसरित । २ व्यास
३ आच्छादित (दे १, ८५) ।

गुंठी स्त्री [दे] नीरगी, स्त्री का वल्ल-विशेष
(दे २, ६०) ।

गुड न [दे] मुस्ता से उत्पन्न होनेवाला तृण-
विशेष (दे २, ६१) ।

गुडण न [गुण्डन] धूलि का लेप, धूल का
शरीर में लगाना, 'रयरैगुण्डणु डण्णणि य, नो
सम्म सहसि' (साया १, १—पत्र ७१) ।

गुडिअ वि [गुण्डित] १ धूलि-लित, धूलि-
युक्त (पात्र) । २ लित, पता हुआ, 'डुएण

च

च अ [च] अथवा, या: 'चसखो विगप्पेण'
(पच ३, ४४)।

च पु [च] तालु-स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण विशेष
(प्राप: प्रामा)।

च अ [च] इन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता
अव्यय—१ और, तथा (कुमा, हे २, २१७)।

२ पुन, फिर (कम्म ४, २३, ६६, प्रासू
५)। ३ अवधारण, निश्चय (पच १३)। ४
भेद, विशेष (निचू १)। ५ अतिशय, आधिक्य
(आचा, निचू ४)। ६ अनुमति, सम्मति
(निचू १)। ७ पाद-पूर्ति, पाद-पूरण (निचू
१)।

चआ स्त्री [त्वक्] चमडी, त्वचा (पड्)।
चइअ वि [शक्ति] जो समर्थ हुआ हो, शक्त
(से ६, ५१)।

चइअ देखो चविअ (पउम १०३, १२६)।
चइअ वि [त्यक्त] मुक्त, परित्यक्त (कुमा
३, ४६)।

चइअ वि [त्याजित] छुडवाया हुआ, मुक्त
कराया हुआ (शोध ११५)।

चइअ देखो चय = त्यज्।
चइअ देखो चु।

चइअ देखो चेइअ (पड्)।

चइउ } देखो चय = त्यज्।
चइऊण }

चइऊण देखो चु।

चइत्त देखो चेइअ (हे २, १३, कुमा)

चइत्त पु [चैत्र] मास-विशेष, चैत्र मास (हे
१, १५२)।

चइत्ता देखो चु।

चइत्ताण } देखो चय = त्यज्।
चइयव्व }

चइड (शौ) वि [चकित] भीत, शक्ति (अभि
२१३)।

चइयव्व देखो चु।

चड वि [चतुर्] चार, सख्या-विशेष, ४
(उवा, कम्म ४, २, जी ३३)। आलीस स्त्री
[चत्वारिंशत्] चौआलीस, ४४ (पि ७५,
१६६)। चड न [काष्ठा] चारो दिशा
(कुमा) कट्टी स्त्री [काष्ठी] चौकठा, चौकठ,

चौखटा, द्वार के चारो ओर का काठ, द्वार का
ढांचा (निचू १)। क्लोण वि [क्लोण] चार
कोणवाला, चतुरस्र (शाया १, १३)। ग
न देखो चउक्क = चुक्क (द ३०)। गइ स्त्री
[गति] नरक, तिर्यग्, मनुष्य और देव की
योनि (कम्म ४, ६६)। गइअ वि
[गतिक] चारो गति में भ्रमण करनेवाला
(आ ६)। गमण न [गमन] चारो
दिशाएँ (कप्प)। गुण, गुण वि [गुण]
चौगुना (हे १, १७१, पड्)। चत्ता स्त्री
[चत्वारिंशत्] संख्या विशेष, चौआलीस
(भग)। चरण पु [चरण] चौपाया, चार
पैर के जंतु, पशु (उप ७६८ टी, मुपा ४०६)।

चूड पु [चूड] विनाघर वश के एक राजा
का नाम (पउम ५, ४५)। चू देखो त्य
(हे २, ३३)। ट्टाणवडिअ वि [स्थान-
पतित] चार प्रकार का (भग)। णउइ स्त्री
[नवति] सख्या-विशेष, चौआनवे, ६४
(पि ४४६)। णउय वि [नवत] चौआ-
नवेवाँ, ६४ वाँ (पउम ६४, १०६)। णवइ
देखो णउइ (सम ६७, आ ४४)। ण
(अप)। देखो पन्न (पिग)। तिस, तीस
न [त्रिंशत्] चौतीस, ३४ (भग, श्रौप)।
तीसइम देखो तीसइम (पउम ३४, ६१)।
तीसा स्त्री देखो तीस (प्राह)। चालीस
वि [चत्वारिंश] चौआलीसवाँ, ४४ वा
(पउम ४४, ६८)। तीसइम वि [त्रिंश]
१ चौतीसवाँ ३४ वाँ (कप्प)। २ न. सोलह
दिनो का लगातार उपवास (शाया १, १—
पउ ७२)। त्य वि [य] १ चोया (हे
१, १७१)। २ पुन. उपवास (भग)।
त्यचउय पुन [थचतुर्थ] एक एक उप-
वास (भग)। त्यभत्त न [थभक्त] एक
दिन का उपवास (भा)। त्यभत्तिय वि
[थभक्ति] जिसने एक उपवास किया हो
वह (पएह २, १)। त्यिमगल न [थिम-
गल] वधू-घर के समागम का चतुर्थ दिन,
जिनके बाद जामाता भ्रतेला अपने घर जाता
है, चौठारी (गा ६४६ प्र)। त्यी स्त्री [थी]

१ चौथी। २ सप्रदान-विभक्ति चतुर्थी विभक्ति
(ठा ८)। ३ तिथि-विशेष (मम ६)। थ
देखो इत (राज)। दस नि व [दशान]
सत्या-विशेष, चौदह (नव २, जी ४७)।
दसपुवि पु [दशपूर्विण] चौदह पूर्व
ग्रन्थो का जानवाना मुनि (शोध २)। दमम
वि देखो इसम (शाया १, १४)। दसहा
थ [दशधा] चौदह प्रकार से (नव ५)।
दसी स्त्री [दशी] तिथि विशेष, चतुर्दशी
(रयाण ७१)। इत पु [दन्त] ऐरावत,
इन्द्र का हाथी (कप्प)। इम देखो दस
(भग)। इसपुवि देखो दसपुवि (ना
५, ४)। इसम वि [दश] १ चौदहवाँ,
१४ वाँ (पउम १४, १५८)। २ पुन. सप्त
तार छ दिनों का उपवास (भग)। इसी
देखो दसी (कप्प)। इसुत्तरम वि
[दशोत्तरशततम] एक सौ चौदहवाँ
११४ वाँ (पउम ११४, ३५)। इह ग
दस (पि १६६, ४४३)। इही ग
दसी (प्राप्र)। इसि, इसिं थ [इशि]
चारो दिशाओ की तरफ, चारो दिशाओ में
(भग, महा. ठा ४, २)। इा प्र [धा]
चार प्रकार से (उव)। नाण न [ज्ञान]
मति, धृत, अथचि और मन पर्यंत ज्ञान (ना
महा)। नाणि वि [ज्ञानिण] मति बंधू
चार जानवाला (मुपा ८३, ३००)। पण
देखो पन्न। पणइम वि [पञ्चाम्] १
चौवनवा, ५४ वाँ। २ न. लगातार एक दिन
दिनो का उपवास (शाया २—पउ २११)।
पन्न, पन्नास स्त्री [पञ्चामन्] चौल,
५४ (पउम २०, १७, सम ७७, कम्म)।
पन्नासइम वि [पञ्चागतम] चौआलीस,
५४ वा (पउम ५४, ४८)। पण दे
पण (शाया १, ८, जी २१)। पान न
[पाल] सूर्यम देव का प्रयुक्त
(गय)। पड्या, पड्या स्त्री [पड्या]
१ छन्द-विशेष (पिग)। २ जंतु विशेष
एक जाति (जीव २)। पड्ये स्त्री [पड्ये]
देवो पड्या (मुपा १६०)। पण दे
पन्न (मम ७२)। पण पुत्री [पण]

निशेप (पच) । °मेण पु [°सेन] इस नाम का एक प्रसिद्ध राजा (म ६) । °हर वि [°धर] १ गुणो को धारण करनेवाला, गुणी । २ तन्तु धारक । स्त्री °रा (सुपा ३२७) । °गर पु [°कर] गुणों की खान, अनेक गुण-वाना, गुणी (पचम १५, ६८, प्राप् १३४) । गुण देवो ण्माग, 'गुणमद्वि अणमत्ते सुराउवव तु जइ इहाणच्छे' (कम्म २, ८, ५, ५५, ५६, आ ४४) । °गुण वि [°गुण] गुना, आवृत्त, 'वीसगुणो तोमगुणो' (कुमा, प्राप् २६) । गुणण १ [गुणन] १ गुणकार (पच २३६) । २ शन्य-भरावर्तन, आवृत्ति, 'गुणणु (?) गुण-णणु) ष्हाणु अणमत्तो' (पिड ६६४) । गुणणा स्त्री [गुणना] ऊपर देखो (मम्मकवो १५) । गुणगालीम कीन [एमोनचत्वारिणान्] उन्नतानोम ३६ (राय ५६) । गुणगुट्टि स्त्री [गुणगुट्टि] लगातार आठ दिना वा उपास (मज्ज ५८) । गुणमेण पु [गुणसेन] एक जैन आचार्य जो मुप्रसिद्ध रूमाचार्य के प्रवृत्त थे (कुप्र १६) । गुणा स्त्री [दे] मिष्टान्न-विशेष (भवि) । गुणाणिय वि [गुणत] पढाया हुआ, पाठित, 'तप मो अण्ण मयलाओ धणुववयाइयाओ मण्णियिआओ गुणाणियो' (महा) । गुण वि [गुणन] गुण-युक्त गुणवाला (उप ५६७ दी मउठ, प्राप् २६) । गुणिअ वि [गुणिअ] १ गुना हुआ, जिमका उपास किया गया हो वर (आ ६) । २ चिन्तित, 'गुणिअ इया इया' (दे ११, ३१) । ३ पठित मन्त्र (मान ६२) । ४ जिन पाठ की आवृत्ति वर, १०११ वर, परामत्तित (उप ३) ।

१५) । ३ स्व-पर की रक्षा करनेवाला, गुप्ति-युक्त, मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला (उप - ०४) । ४ एक स्वनाम प्रसिद्ध जैनाचार्य (आक) ।

गुत्त देखो गोत्त (पाअ, भग, आवम) । गुत्तण्हाण न [दे] पितृ-तर्पण (दे २, ६३) । गुत्ति स्त्री [गुत्ति] १ कैदखाना, जेल (सुर १, ७३, सुपा ६३) । २ कठघरा (सुपा ६३) । ३ मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना । ४ मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्ति ठा २, १, सम ८) । °गुत्त वि [°गुत्त] मन वगैरह की निर्दोष प्रवृत्तिवाला, सयत (पह २, ४) । °पाल पु [°पाल] जेल का रक्षक, कैदखाना का अध्यक्ष (सुपा ४६७) । °सेण पु [°सेन] ऐरवत क्षेत्र मे उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । गुत्ति स्त्री [गुत्ति] गोपन, रक्षण (गु १२) । गुत्ति स्त्री [दे] १ वचन (दे २, १०१, भवि) । २ इच्छा, अभिलाषा । ३ वचन, आवाज । ४ लता, वल्ली । ५ सिर पर पहनी जाती फूल की माला (दे २, १०१) । गुत्तिदिय वि [गुत्तेन्द्रिय] इन्द्रिय-निग्रह करने वाला, सयतेन्द्रिय (भग, राया १, ४) । गुत्तिय वि [गौत्तिक] रक्षक, रक्षण करने-वाला, नगरगुत्तिण सहावेइ' (कप्प) । गुत्तिय वि [गौत्तिक] गोती, समान गोत्र-वाला, गोतिया (कुप्र ३४४) । गुत्तिवाल देखो गुत्ति-पाल (धमंवि २६) । गुत्थ वि [अथित] गुम्फित, सूँघा हुआ (स ३०३, प्राप, गा ६३, कम्म) । गुत्थिह पुं [दे] भाम पक्षी, पक्षि-विशेष (दे २, ६२) । गट्ट पक्षी [गट्ट] गाढ. गदा (दे ६, ४६) ।

गुप्पंत न [दे] १ शयनीय, शय्या । २ वि. गोपित, रक्षित (दे २, १०२) । ३ समूह, मुग्ध, घबडाया हुआ, व्याकुल (दे २, १०२; से १, २, २, ४) ।

गुप्पय देखो गो-पय (सूक्त ११) ।

गुप्फ पु [गुल्फ] फीली, पैर की गोंठ (स ३३, हे २, ६०) ।

गुफगुमिअ वि [दे] सुगन्धी, सुगन्ध युक्त (दे २, ६३) ।

गुवभ देखो गुप्फ (पड) ।

गुभ सक [गुफ्] सूँघना, गठना । गुभइ (हे १, २३६) ।

गुम सक [अम्] धूमना, पर्यटन करना, भ्रमण करना । गुमइ (हे ४, १६१) ।

गुमगुम } अक [गुमगुमाय] १ 'गुम-
गुमगुमाअ } गुम' आवाज करना । २ मधुर
अव्यक्त ध्वनि करना । वक्क गुमगुमंत,
गुमगुमित, गुमगुमायत (औप, राया १,
१, कप्प, पचम ३३, ६) ।

गुमगुमाइय वि [गुमगुमायित] जिसने 'गुम-गुम' आवाज किया हो वह (औप) ।

गुमिअ वि [अमित] अमित, धुमाया हुआ (कुमा) ।

गुमिल वि [दे] १ मूढ, मुग्ध । २ गहन, गहरा । ३ प्रखलित । ४ आपूर्ण, भरपूर (दे २, १०२) ।

गुमुगुमुगुम देखो गुमगुम । वक्क गुमुगुमु-
गुमत, गुमुगुमुगुमेत (पचम २, ४०,
६२, ६) ।

गुम्म अक [मुह्] मुग्ध होना, घबडाना, व्याकुल होना । गुम्मइ (हे ४, २०७) ।

चउपीस वि [चतुर्विंश] चौबीसवाँ (पव ४६)।

चउवीसिगा स्त्री [चतुर्विंशिका] समय-मान-विशेष, चौबीस तीर्थंकर जितने समय में होते हैं उतना काल-एक उत्सर्पिणी या एक श्रव-सर्पिणी-काल (महानि ४)।

चउवेद } वि [चतुर्वेद] चारो वेदो का
चउवेय } ज्ञाता, चतुर्वेदी, चौवे (धर्मस
चउठवेद } १२३०, मोह १०)।

चउसट्टिआ स्त्री [चतु षष्टिका] रसवाली कीज तौलने का एक नाप, चार पल का एक माप (अणु १५१)।

चउसर वि [दे] चौसर, चार सरा (लढी)वाला (हार आदि) (सुपा ५१०, ५१२)।

चउहत्थ पु [चतुर्हस्त] श्रीकृष्ण (सुख ६, १)।

चउहार पु [चतुराहार] चार प्रकार का आहार, अशन, पान, स्नादिम और स्वादिम, 'कंतासिज्जपि न सञ्जेमि चउहारपरिहारो' (सुपा ५७३)।

चओर पुंन [दे] पात्र-विशेष, 'भुतावसाणे य आयमणवेलाए श्रवणीएसु चओरेसु' (स २५२)।

चओर } पु स्त्री [चओर] पक्षि-विशेष
चओरग } (परह १, १, सुपा ३७)।

चओवचइय वि [चयोपचयिक] बुद्धि-हानिवाला (उप २५८ टी, आचा)।

चंक्रम अक [चङ्क्रम] बार बार चलना। २ इधर उधर घूमना। ३ बहुत भटकना। ४ टेढा चलना। ५ चलना फिरना। वकृ चंक्रमत (उप १३० टी, ६८६ टी)। हेकृ चक्रमिउ (स ३५६)। कृ चंक्रमियवच (पि ५५६)।

चक्रमण न [चङ्क्रमण] १ इधर उधर भ्रमण। २ बहुत चलना। ३ बार बार चलना। ४ टेढा चलना। ५ चलना-फिरना। (सम १०६, राया १, १)।

चक्रमिय वि [चक्रमित] १ जिसने चक्रमण या भ्रमण किया हो वह। २-६ ऊपर देखो (उप ७२८ टी, निचू १)।

चक्रमिर वि [चक्रमित्] चक्रमण करनेवाला (सण)।

चक्रमम अक [चक्रम्य] देखो चक्रम। वकृ चक्रमत, चक्रमसाण (गा ४६३, ६२३ उप पृ २३०, परह २, ५, कप्प)।

चक्रमण देखो चक्रमण (राया १, १—पत्र ३८)।

चक्रमिअ देखो चक्रमिअ (से ११, ६६)।
चकार पु [चकार] च वर्ण, 'च' अक्षर (ठा १०)।

चग वि [दे चङ्ग] सुन्दर, मनोहर, रम्य (दे ३, १, उप पृ १२६, सुपा १०६, कृ ३५, धम्म ६ टी कप्प, प्राप्र, सण, भवि)।

चग क्रिवि [दे] अच्छा, ठीक (२५)।

चगदेव पु [चङ्गदेव] हेमाचार्य का गृहस्था-वस्था का नाम (कुप्र २०)।

चगवेर पु न [दे] काठ का तख्ता (आचा २, ४, २, ३)।

चगवेर पु [दे] काष्ठ-पात्री, काठ का बना हुआ छोटा पात्र-विशेष, 'पीढए चगवेरे य' (दस ७)।

चगिम पु स्त्री [दे चङ्गिमन्] सुन्दरता, सौन्दर्य, श्रद्धता, चारुपन (नाट)। स्त्री 'मा (विवे १००, उप पृ १८१, सुपा ५, १२३, २६३)।

चगेरी स्त्री [दे] टोकरी, चगेली, डलिया, कठारी, तृण आदि का बना पात्र-विशेष (विसे ७१०, परह १, १)।

चच देखो चङ्ग। चंचइ (प्राक्क ६५)।

चंच पुं [चञ्च] १ पद्मप्रभा नरक-पृथिवी का एक नरकावास (इक)। २ न. देव-विमान-विशेष (इक)।

चचपुड पु न [दे] आघात, श्रमिघात, 'सुर-वलणचचपुडेहि धरणिअल श्रमिहणमाण' (जं ३)।

चचप्पर न [दे] असत्य, झूठ, श्रुत, 'चच-प्पर न भणिमो' (दे ३, ४)।

चचरीअ पु [चञ्चरीक] अमर, भीरा (दे ३, ६)।

चंचल वि [चञ्चल] १ चपल, चञ्चल (कप्प, चार १)। २ पु रामण के एक सुभट्ट का नाम (पउम ५८, ३६)।

चचला स्त्री [चञ्चला] १ चञ्चल स्त्री। २ छन्द-विशेष (पिंग)।

चंचलिअ वि [चञ्चलित] चञ्चलित हुमा, 'भणयाणिलचंचे (?) च' निभरेउण (विक्र २६)।

चचा स्त्री [चञ्चा] १ नरकट की चर्गा। २ चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग-नगरी विरो। ३ धास का पुतला (दीव)।

चचाल (अप) देखो चचल (सण)।

चंचु स्त्री [चञ्चु] चोच, पक्षी का डेर (दे ३, २३)।

चचुच्चिय न [दे चञ्चुरित, चञ्चुच्चिय] कुटिल गमन, टेढी चाल (भोप)।

चचुमालइय वि [दे] रोमांचित, पुनरित (कप्प, श्रौप)।

चचुय पु [चञ्चुक] १ अनायं देश निगंर। २ उस देश का निवासी मनुष्य (परह १, १)।

चचुर वि [चञ्चुर] चपल, चपल (कप्प)

चङ्ग सक [तक्ष्] छिलना। चडद (पर)।

चड सक [पिप्] पीतना। चडद (पर)।

चड देखो चट (इक)।

चड वि [चण्ड] १ प्रबल, उग्र, प्रार, तीव्र (कप्प)। २ अमानक, डरावना (उत २१, श्रौप)। ३ अति क्रोध, क्रोध-मन्त्रागी (उप १, १०, पिंग, राया १, १८)। ४ तेजस्वी तैजिल (उप पृ ३०१)। ५ पु रामण वरुण एक राजा का नाम (पउम ५, २६५)।

६ क्रोध, कोप (उत १)। 'विरण'।

['विरण] सूर्य, रवि (उप पृ ३२१)।

°कोसिय पुं [°काशिक] एव वा, किन् भगवान् महावीर को मताया वा (पप)

°दीव पुं [द्वीप] द्वीप विशेष (इक)

°पञ्जाअ पु [°प्रजात] उच्चरित के प्राचीन राजा का नाम (आमन)।

पु [भाउ] सूर्य, गुरुज (कुम्मा १३)।

पु [°रु] प्रकृति श्रेणी एव जैन धर्म (आय १७)। 'उटिमय पुं [°राम] वृष-विशेष (मा)। 'धान् पु [°पाल] विशेष (कप्प)। 'मंण पु [°मेन] राजा का नाम (कप्प)। 'विल्लिन [°विल्लिन] शोध-यज्ञ महा हुमा मूठ (उत १)।

चटमु पु [चण्डाशु] सूर्य मूठ, रवि (कप्प)।

गूढ वि [गूढ] गुप्त, प्रच्छन्न छिपा हुआ (परह १, ४, जी १०)। दंत पु [दन्त] १ एक अन्तर्द्वीप, द्वीप विशेष। २ द्वीप-विशेष का निवासी (ठा ४, २)। ३ एक जैन मुनि। ४ अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र का एक अध्येयन (अनु २)। ५ भरत क्षेत्र का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४)।

गूढ सक [गूढ] छिपाना, गुप्त रखना। वक्र गूहृत (स ६१०)।

गूह न [गूह] शू, विष्टा (तदु)।

गूहण न [गूहण] छिपाना (सम ७१)।

गूहिय वि [गूहित] छिपाया हुआ (स १'६)।

गूह } (अप) देखो गिण्ह। गूहइ (कुमा)।
गूह } सक गूहैगिण्पु (हे ४, ३६४)।

गोअ वि [गोय] १ गाने योग्य, गाने लायक, गीत (ठा ४, ४—पत्र २८७, वजा ४४)। २ न गीत, गान, 'मणहरगेयभुणीए' (सुर ३, ६६, गा ३३४)।

गोउअ न [दे] स्तनी के ऊपर की वक्र ग्रन्थि (दि २, ६३)।

गोउछ न [दे] कन्डुक, चोली (दि २, ६४)।

गोह न [दे] देखो गोउअ (दि २, ६३)।

गोडई स्त्री [दे] क्रीडा, खेल, गम्मत, विनोद (दि २, ६४)।

गोदुअ पु [कन्डुक] गेंद, गेंदा, खेलने की एक वस्तु (हे १, ५७, १८२, सुर १, १२१)।

गोज वि [दे] मथित, विलोडित (दे २, ८८)।

गोजल न [दे] श्रीवा का आभरण (दि २, ६४)।

गोअ वि [ग्राह्य] ग्रहण-योग्य (हे १, ७८)।

गोडण न [दे] १ फेंकना, क्षेपण। २ दे देना, 'तत्त बगेडणकए ससभमा आसमाउ लहु' (उप ६५८ टी)।

गोडु न [दे] १ पट्ट, कीच, कांदो। २ यव, अन्न-विशेष (दि २, १०४)।

गोड्डी स्त्री [दे] गेडी, गेंद खेलने की लकड़ी (कुमा)।

गोह देखो गिण्ह। गेहइ (हे ४, २०६, उव, महा)। भूका गेहहीअ (कुमा)। भवि गेहिहसइ (महा)। वक्र गेण्हत, गेण्हमाण (सुर ३, ७४, विपा १, १)। सक गेहिहत्ता,

गेहिऊण, गेहिहअ (भग, पि ५८६, कुमा)। कृ गेहिहयव्व (उत्त १)।

गेण्हण न [ग्रहण] आदान, उपादान, लेना (उप ३३६, स ३७५)।

गेण्हणया स्त्री [ग्रहणा] ग्रहण, आदान (उप ५२६)।

गेण्हविण्य वि [ग्राहित] ग्रहण कराया हुआ (स ५२६, महा)।

गेण्हिअ न [दे] उर-सूत्र, स्तनाच्छादक-वस्त्र (दे २, ६४)।

गेड्ढ देखो गिड्ढ (श्रौप)।

गेरिअ } पुन [गैरिक] १ गेरु, लाल रङ्ग
गेरुअ } की गिट्टी (स २२३, पि ६०, ११८)। २ मरिण-विशेष, रत्न की एक जाति (परहण १—पत्र २६)। ३ वि गेरु रग का (कप्प)। ४ पु त्रिदण्डी साधु, साख्य मत का अनुयायी परिव्राजक (पव ६४)।

गेलण्ण } न [ग्लान्य] रोग, बीमारी, ग्लानि
गेलल } (विसे ५४०, उप ४६६, श्रौष ७७, २२१)।

गेवेज्ज } न [ग्रैवेयक] १ श्रीवा का आभू-
गेवेज्ज } षण, गले का गहना (श्रौप, याया
गेवेज्जय } १, २)। २ ग्रैवेयक देवो का विमान (ठा ६)। ३ पु उत्तम श्रेणी के देवो की एक जाति (कप्प, श्रौप, भग, जी ३३, द्दक)।

गेवेय देखो गेवेज्ज (आचा २, १३, १)।

गेह पुन [गेह] घर, 'न नईन वण न उण्णडो गेहो' (वजा ६८)।

गेह न [गेह] गृह, घर, मकान (स्वप्न १६, गड)। 'जामाउय पु [जामाउक] घर-जमाई, सर्वदा ससुर के घर में रहनेवाला जामाता (उप पृ ३६६)। 'गार वि [गार] १ घर के आकारवाला। २ पु कल्पवृक्ष की एक जाति (सम १७)। 'लु वि [वत्त] घरवाला, गृही, संसारी (षड्)। 'सम पु [श्रम] गृहस्थाश्रम (पउम ३१, ८३)।

गेहि वि [गृद्ध] लोलुप, अत्यासक्त (श्रौष ८७)।

गेहि स्त्री [गृद्धि] प्रासक्ति, गार्ध, चालच (स ११३, परह १, ३)।

गेहि वि [गेहिन्] नीचे देखो (याया १, १४)।

गेहिअ वि [गेहिक] १ घरवाला, गृही। २ पु भर्ता, धनी, पति (उत्त २)।

गेहिअ [गृद्धिक] अत्यासक्त, लोलुप, लालची (परह १, ३)।

गेहिणी स्त्री [गेहिनी] गृहिणी, स्त्री (सुपा ३४१, कुमा, कप्प)।

गो पु [गो] भूप, राजा, 'तइओ गो भूपसुर-स्सिणो त्ति' (वव १)। 'माहिसक न [माहिक] गौ और भैंस का झुंड या समूह 'निव्वुय गोमाहिसक' (स ६८६)।

गो पुं [गो] १ रश्मि, किरण (गउड)। २ स्वर्ग, देव-भूमि (सुपा १४२)। ३ बैल, बलीवर्द। ४ पशु, जानवर। ५ स्त्री गंया, 'अपरपेरियतिरियानियमियदिग्गमएओणिलो गोव्व' (विसे १७५८, पउम १०३, ५०, सुपा २७५)। ६ वाणी, वाग् (सूअ १, १३)। ७ भूमि, 'ज महइ विभवणगोयराण लोओ पुलिदार' (गउड, सुपा १४२)।

'आल देखो 'वाल (पुष्प २१६)। 'इल वि [मत्] गो युक्त, जिसके पास अनेक गो हो वह (दि २, ६८)। 'उल न [कुल] १ गौशो का समूह (आव ३)। २ गोष्ठ, गो-वाडा, 'सामी गोउलगओ' (आवम)। 'उलिय वि [कुलिक] गो कुलवाला, गो कुल का मालिक, गोवाला (महा)। 'किलजय न [किलजक] पात्र-विशेष, जिसमें गौ को खाना दिया जाता है (भग ७, ८)। 'कीड पु [कीट] पशुओ की मक्खी, बघी (जी १६)। 'खीर, 'खीर न [क्षीर] गंया का दूध (सम ६०, याया १, १)। 'गह पु [ग्रह] गाय की चोरी, गौ को छीनना (परह १, ३)। 'गहण न [ग्रहण] गो-ग्रहण (याया १, १८)। 'णिसज्जा स्त्री [निपद्या] आसन विशेष, गौ की तरह बैठना (ठा १, १)। 'तित्थ न [तीर्थ] १ गौशो का तालाब आदि में उतरने का रास्ता, क्रम से नीची जमीन (जीव ३)। २ लवण समुद्र वगैरह की एक जगह (ठा १०)। 'त्तास वि [त्तास] १ गौशो को त्रास देनेवाला। २ पु एक कूटमाह का पुत्र (विपा

रालस-चरा का एक राजा, एक लकापति (पउम ५, २६६)। °विक्रम पुन [°विक्रमप] चन्द्र का विक्रम-क्षेत्र (जो १०)। °विमाण न [°विमान] चन्द्र का विमान (ज ७)। °विलासि वि [°विलासिन] चन्द्र के तुल्य मनीहर (राय)। °वेग पुं [°वेग] एक विद्याधर-नरेश (महा)। °सवच्छर पु [°सवत्सर] वर्ष-विशेष, चान्द्र मासो से निष्पन्न सवत्सर (चद १०)। °साला ली [°शाला] ऋत्वालिका, ऋतारी (दे ३, ६)। °सालिया ली [°शालिका] ऋत्वालिका (राया १, १)। °सिंग न [°शृङ्ग] देव-विमान-विशेष (सम ८)। °सिद्ध न [°शिष्ट] एक देवविमान (सम ८)। °सिरी ली [°श्री] द्वितीय कुलकर पुरुष की माँ का नाम (भ्रातृ १)। °सिहर पु [°शिखर] विद्याधर वरु का एक राजा (पउम ५, ४३)। °सूरदसा-वणिग्या, °सूरपासणिग्या ली [°सूरदर्श-निका] बालक का जन्म होने पर तीसरे दिन उसको कराया जाता चन्द्र श्रीर सूर्य का दर्शन और उसके उपलक्ष्य में किया जाता उत्सव (सग ११, ११; विपा १, २)। °सूरि पु [°सूरि] स्वनामविख्यात एक जैन आचार्य (सण)। °सेण पु [°सेन] १ भगवान् भद्रिनाथ का एक पुत्र। २ एक विद्याधर राज-कुमार (महा)। °सेहर पुं [°शेखर] १ भूप-विशेष (ती ३८)। २ महादेव, शिव (मि ३६५)। °हास पु [°हास] खड्ग-विशेष, तलवार (से १४, ५२, गडड)।

चंद पु [चन्द्र] सवत्सर-विशेष, जिसमें अधिक मास न हो वह वर्ष (सुज ११)। °उडु पुं [°उडु] कुछ अधिक उनसठ दिनों की एक ऋतु (सुज १२)। °परिवेस पु [°परिवेप] चन्द्र-परिधि (भृगु १२०)। °पहा ली [°प्रभा] देखो चद-पपभा (विचार १२६, कुप ४५३)। °वदी ली [°वती] एक नगरी (मोह ८८)।

चद वि [चन्द्र] चन्द्र-संबन्धी (चंद १२)। °कुल न [°कुल] जैन मुनियों का एक कुल (गच्छ ४)।

चदअ देखो चद = चन्द्र (हे २, १६४)।

चदइल्ल पुं [दे] मयूर, मोर (दे ३, ५)।

चदक पु [चन्द्राङ्क] विद्याधर वरु का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पउम ५, ४३)।

चदग [चन्द्रक] देखो चंद। °विज्म, °वेज्म न [°वेज्य] राधादेव, 'चदगविज्मं लई, केवलसरिस समारपरिहीण' (सया १२२, निवृ ११)।

चदद्विआ ली [दे] १ भुज, शिखर, कथा। २ गुच्छा, स्तवक (दे ३, ६)।

चदण पुं [चन्दन] १ एक देवविमान (देवेन्द्र १४३)। २ रत्न की एक जाति (उत्त ३६, ७०)। ३ पुं द्वौन्द्रिय जीव-विशेष, अन्न का जीव (उत्त ३६, १३०)।

चदण पु न [चन्दन] १ सुगन्धित वृक्ष-विशेष, चन्दन का पेड़ (प्रासू ६)। २ न, सुगन्धित काष्ठ-विशेष, चन्दन की लकड़ी (भग ११, ११, हे २, १८२)। ३ घिसा हुआ चन्दन (कुमा)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। ५ रुक्म पर्वत का एक शिखर (ज)। °कलस पुं [°कलश] चन्दन-चर्चित कुम्भ, माङ्गलिक घट (श्रीप)। °घट पु [°घट] मंगल कारक घटा (जीव ३)। °वाला ली [°वाला] एक साध्वी ली, भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या (पडि)। °वइ पु [°पति] स्वनाम ध्यात एक राजा (उप ६८६ टी)।

चंदणग पु न [चन्दनक] १ ऊपर देखो। २ पु, द्वौन्द्रिय जन्तु-विशेष, जिसके बलेवर की जैन साधु लोग स्थापनाचार्य में रखते हैं (पएह १, १, जी १५)।

चदणा ली [चन्दना] भगवान् महावीर की प्रथम शिष्या, चन्दनवाला (सम १५२, कम्प)।

चदणि ली [दे] आचमन, कुल्ला। °उयय न [°उदक] कुल्ला फेंकने की जगह (भावा २, १, ६, २)।

चदणी ली [दे] चन्द्र की पत्नी, रोहिली, 'चदी विय चदणीजोमो' (महा)।

चदम पु [चन्द्रमस्] चन्द्रमा, चांद (भग)।

चंदरुह देमो चह रुद (पना ११, ३५)।

चदवडाया ली [दे] निमया माया गरीर टका श्रीर माया नंगा हो ऐनी ली (दे ३, ७)।

चदा ली [चन्द्रा] चन्द्र-दीप की रात्रपानी (जीव ३)।

चदाअव पुं [चन्द्रातप] ज्योत्स्ना, चन्द्रि, चन्द्र की प्रभा, चांदनी (से १, २७)। २ चदायय।

चदाणण पु [चन्द्राणन] ऐतव भेष ४ प्रथम जिनदेव (सम १५३)।

चदाणणा ली [चन्द्राणना] १ चद्र के गुण ग्राह्य उत्पन्न करनेवाली, चन्द्रपुत्री। २ शाश्वती जिन-प्रतिमा विशेष (ठा १, १)।

चदाभ वि [चन्द्राभ] १ चद्र के गुण ग्राह्य-जनक। २ पु भ्रातृजिनदेव, चद्र प्रथम स्वामी (भ्रातृ २)। ३ इस नाम का एक राज-कुमार (पउम ३, ५५)। ४ न ए देवविमान (सम १४)।

चदायण न [चन्द्रायण] वर-विशेष, जिसे चन्द्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार भोग्य और घटाने-बढ़ाने पड़ते हैं (पंचा १६)।

चदायण न [चन्द्रायण] चद्र का स ए मास पर दक्षिण और उत्तर दिशा में घन (जी ११)।

चदायय देखो चदाअव। १ चन्द्राणन विशेष, वितान, चंदमा (सुर ३, ७२)।

चदालग न [दे] वात्र का भावत सिंहे (सूम १, ४, २)।

चदायत्त न [चन्द्रायत्त] एक देवविमान (सम ८)।

चदायिज्मय देमो चदग-विज्म (एति)। चदिअ वि [चन्द्रिक] चन्द्ररा, चन्द्र-संबन्धी (पव १४१)।

चदिआ ली [चन्द्रिका] चांदनी, चद्र की प्रभा, ज्योत्स्ना (से ५, २, गा ७७)।

चदिकोञ्जलीय नि [दे] चन्द्रिकोञ्जलि चन्द्र-भान्ति में उज्ज्वल बना हुआ (पि)।

चदिण न [दे] चन्द्रिमा, चन्द्रप्रभा 'निहाण दाणं चदाण'।

चदिण तन्मराण पत्तियग। मणुस्सिणा विउमं, नामन्त मयनवेमाराण ॥' (१११०)।

चद्रिम देमो चंदम (सीत ११)। २ चद्रि मुनि (पनु २)।

चद्रिमा ली [चन्द्रिम] चद्र की प्रभा ज्योत्स्ना, चांदनी (हे १, १८५)।

चद्रिमाइय न [चन्द्रिमा] चन्द्र-संबन्धी मून का एर कायदा (सण)।

गोडी छी [गौडी] गुड की बनी हुई मदिरा, गुड का दाब (बृह २)।
 गोडू वि [गौड] १ गुड का बना हुआ । २ मधुर, मीठा (भग १८, ६)।
 गोडू [दे] देखो गोड (मुच १२०)।
 गोण पु [दे] १ साक्षी (दे २, १०४)। २ बैल, वृषभ, बलीवर्द (दे २, १०४, कुमा, हे २, १७४, सुपा ५४७, औप, दस ५, १, आचा २, ३, उप ६०४, विपा १, १)।
 ३ इन्द्र वि [वत्] गाय वाला, गौभ्रो का मालिक (सुपा ५४७)। ४ इष्ट पुत्री [पति] गौभ्रो का मालिक, गौ वाला (सुपा ५४७)।
 गोण (शै) पुन [गो] बैल, 'गोणो, गोण' (प्रा ८८)।
 गोण वि [गौण] १ गुण निष्पन्न, गुण-युक्त, यथार्थ (विपा १, २, औप)। २ अग्रवान्, अमुख्य (औप)।
 गौर्णगाणा छी [गवाङ्गना] गैया, गाय (सुपा ४६५)।
 गोणत्त पुन [दे] वैद्य का औजार रखने गोणत्तय का बैला (उप ३१७, स ४८४)।
 गोणस पु [गोनस] सर्प की एक जाति, फण-रहित साँप की एक जाति (परह १, १, उप पृ ४०३)।
 गोणा छी [दे] गाय, गैया, गऊ (पड्)।
 गोणिक पु [दे] गो-समूह, गौभ्रो का समूह (दे २, ६७, पाञ्च)।
 गोणिय वि [दे] गौभ्रो का व्यापारी (वव ६)।
 गोणी छी [दे] गाय, गैया (ओघ २३ भा)।
 गोण्य देखो गोण = गौण (कम्प, राया १, १—पत्र ३७)।
 गोतिहाणी छी [दे] गोत्रिहायणी गोवत्सा, गौ की बछड़ी (तदु ३२)।
 गोत्त पु [गोत्र] १ पर्वत, पहाड, (श्रा १४)। २ न नाम, अभिधान, आख्या (से १५, १०)। ३ कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से प्राणी उच्च या नीच जाति का कहलाता है (ठा २, ४)। ४ पुन गोत्त, वश, कुल, जाति, 'सत्त मूलगोत्ता परणत्ता' (ठा ७)।
 ५ क्वलिय न [स्वलित] नाम-विपर्यास, एक के बदले दूसरे के नाम का उच्चारण (से ११, १७)। ६ देवता छी [देवता]

कुल-देवी (श्रा १४)। ७ फुस्सिया छी [स्पृशिका] वल्ली-विशेष (परण १)।
 गोत्त पुन [गोत्र] १ पूर्वज पुरुष के नाम मे प्रसिद्ध अपत्य—सतति (एदि ४६, सुज १०, १६)। २ वि वाणी का रक्षक (सूत्र १, १३, ६)।
 गोत्ति वि [गोत्रिन्] समान गोत्रवाला, कुटुम्बी, स्वजन (सुपा १०६)।
 गोत्ति देखो गुत्ति (स २४२)।
 गोत्तिअ वि [गोत्रिक] समान गोत्रवाला, स्वजन, भाई-बद (श्रा - ७)।
 गोत्थुम देखो गोथुम (इक)।
 गोत्थूमा देखो गोथूमा (इक)।
 गोथुम पु [गोस्तूप] १ ग्यारहवें जिन-गोथुम देव का प्रथम-शिष्य (सम १५२, पि २०८)। २ वेलन्धर नागराज का एक आवास पर्वत (सम ६६)। ३ न मानुषोत्तर पर्वत का एक शिखर (दीव)। ४ कौस्तुभ-रत्न (सम, १५८)।
 गोथूमा छी [गोस्तूपा] १ वापी-विशेष, अजन पर्वत पर की एक वापी (ठा ३, ३)। २ शक्रेन्द्र की एक अग्रमहिषी की राजधानी (ठा ४, २)।
 गोदा छी [दे गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी (पड्, गा ६५५)।
 गोय पु [गोय] १ म्लेच्छ देश। ३ गोय देश का निवासी मनुष्य (राज)।
 गोधा छी [गोधा] गोह, हाथ से चलनेवाली एक साँप की जाति (परह १, १, राया १, ८)।
 गोत्र देखो गोण्य (राया १, १६—पत्र २००)।
 गोपुर देखो गोउर (उत्त ६, अमि १८५)।
 गोप्पहेलिया छी [गोप्रहेलिका] गौभ्रो को चरने की जगह (आजा २, १०, २)।
 गोफणा स्त्री [दे] गोफन, पत्थर फेंकने का अस्त्र-विशेष (राज)।
 गोमद्दा स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे २, ६६)।
 गोमाअ पु [गोमायु] शृगाल, सियार, गोदह गोमाउ (नाट—मुच ३२०, पि १६५, राया १, ४, स २२६, पाञ्च)।

गोमाणसिया स्त्री [गोमानसिका] शय्या-कार स्थान-विशेष (जीव ३)।
 गोमाणसी स्त्री [गोमानसी] ऊपर देखो (जीव ३)।
 गोमि वि [गोमिन्] जिनके पाम धनेक गोमिअ गो हो वह, (अणु, निचू २)।
 गोमिअ देखो गोम्मिअ (राज)।
 गोमिअ [दे] देखो गोमा (अणु २१२)।
 गोमिक (मा) [गौरवित] समानित (प्रा १०१)।
 गोमी स्त्री [दे] कनखजूरा, श्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष (जी १६)।
 गोमुह पु [गोमुख] १ यज्ञ-विशेष, भगवान् ऋषभदेव का शासन-यज्ञ (सति ७)। २ एक अन्तर्द्वीप, द्वीप विशेष। ३ गोमुख द्वीप का निवासी मनुष्य (ठा ४, २)। ४ न उपलेपन (दे २, ६८)।
 गोमुही स्त्री [गोमुखी] वाद्य-विशेष, (अणु, राय)।
 गोमुही [गोमुखी] वाद्य-विशेष (राय ४६, अणु १२८)।
 गोमेअ पु [गोमेद] रत्न की एक जाति, गोमेज्ज राहुरत्न (कुमा ७०, उत्त २)।
 गोमेह पु [गोमेय] १ यज्ञ-विशेष, भगवान् नेमिनाथ का शासन-देव (स ८)। २ यज्ञ-विशेष, जिसमे गौ का वध किया जाता है (पञ्च ११, ४१)।
 गोम्मिअ पु [गौल्मिक] कोतवाल, नगर-रक्षक (परह १, २)।
 गोम्ही देखो गोमी (राज)।
 गोय देखो गोत्त (सम ३३, कम्प १)।
 १ वाइ पि [वादिन्] अपने कुल को उत्तम माननेवाला, वशाभिमानी (आचा)।
 गोय न [दे] उदुम्बर—गूलर बगैरह का फल (आव ६)।
 गोय न [गोत्र] मोन, वाक्-संयम (सूत्र १, १४, २०)। १ वाय पु [वाद्] गोत्र-सूचक वचन (सूत्र १, ६, २७)।
 गोयम पु [गोतम] ऋषि-विशेष (ठा ७)। २ छोटा बैल (औप)। ३ न. गोत्र-विशेष (कम्प, ठा ७)।

३, २०, भवि, वजा ६४, ग्राम, पड्) ।
४ विशाल, विस्तीर्ण (दे ३, २०, भवि) ।

चकलिअ वि [दे] चक्राकार किया हुआ (से
११, ६८, म ३८४, गडड) । °भिण्ण वि
[°भिन्न] गोलाकार खण्ड, गोल टुकड़ा
(वृह १) ।

चक्रवाई स्त्री [चक्रवाकी] चक्रवाक-पक्षी का
मादा, चकवी, चकई (रंभा) ।

चक्रवाग } ३ [चक्रवाक] पक्षि-विशेष,
चक्रवाय } चक्रवा (गाया १, १, परह १,
१, स ३३७, कप्प, स्वप्न ५१) ।

चक्रवाल न [चक्रवाल] १ चक्राकार भ्रमण,
'रीइज न चक्रवालेण' (पुष्प १७८) । २
मण्डल, चक्राकार पदार्थ, गोल वस्तु (परण
३६, श्रौप, गाया १, १६) । ३ गोल जला-
शय, 'ससारचक्रवाले' (पञ्च ५२) । ४ गोल
जल समूह, जल राशि, 'जह खुहियचक्रवाले
पोय रयणभरियसमुहम्मि । निजामगा धरिती'
(पञ्च ७६) । ५ आवश्यक कार्य, नित्य-कर्म
(पंच ४) ६ समूह, राशि, ढेर (आठ) ।
७ पु पर्वत-विशेष (ठा १०) । °विक्खभ
पु [°विपक्खभ] चक्राकार वेरा, गोल
परिधि (भग, ठा २, ३) । °मायाारी स्त्री
[°सामाचारो] नित्य-कर्म विशेष (पञ्च ८) ।
चक्रवाला स्त्री [चक्रवाला] गोल पक्ति,
चक्राकार श्रेणी (ठा ७) ।

चक्राअ देखो चक्राय (हे १, ८) ।

चक्राग न [चक्रक] चक्राकार वस्तु 'चक्राग
भजमाणस्म समो भगो य दीसइ' (परण १,
पि १६७) ।

चक्रार पु [चक्रार] राजम वश का एक
राजा, एक नकापति (पउम ५, २६३) ।
°वद्ध न [°वड्ड] शकट, गाड़ी (दम ५, १) ।
चक्राय पु न देखो चक्राय 'मिलियाड
चक्रावायाइ' (म ७६८) ।

चक्राह पु [चक्राभ] मोलहवें जिन-देन का
प्रथम शिष्य (मम १५२) ।

चक्राहिव पु [चक्राधिप] चक्रवर्ती राजा,
सम्राट् (नण) ।

चक्राहिवइ पु [चक्राधिपति] ऊपर देखो
(सण) ।

चक्रि } वि [चक्रिन्, चक्रिक] १ चक्र-
चक्रिय } वाला, चक्र विशिष्ट । २ पु

चक्रवर्ती राजा, सम्राट् (सण) । ३ तेली ।
४ कुम्भार (कप्प, श्रौप, गाया १, १) ।
°साला स्त्री [°शाली] तेल बेचने की दूकान
(वव ९) ।

चक्रिय वि [चक्रित] भयभीत, 'समुहगभीर-
समा दुरासया, अचक्रियया केणइ दुण्हसिया'
(उत्त ११) ।

चक्रिय पं [चक्रिक] १ चक्र से लड़नेवाला
योद्धा । २ भिक्षुक की एक जाति (श्रौप,
गाया १, १) ।

चक्रिया क्रि [शम्नुयात्] सके, कर सके,
समर्थ हो सके (कप्प, कस, पि ४६५) ।

चक्की स्त्री [चक्रा] छन्द-विशेष (पिंग) ।

चक्कुलडा स्त्री [दे] सर्प की एक जाति (दे
३, ५) ।

चक्केसर पु [चक्केश्वर] १ चक्रवर्ती राजा
(भवि) । २ विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का
एक जैन ग्रन्थकार मुनि (राज) ।

चक्केसरी स्त्री [चक्केश्वरी] १ भगवान् आदि-
नाथ की शामनदेवी (सति ६) । २ एक
विद्या-देवी (सति ५) ।

चक्कोडा स्त्री [दे] अग्नि-भेद, अग्नि विशेष
(दे ३, २) ।

चक्क (अप) सक [आ + चक्ष्] कहना ।
चक्कइ (प्राठ् ११६) ।

चक्क सक [आ + र्वाट्] चक्कना,
चीखना, स्वाद लेना । चक्कइ (पि २०२) ।
वह चक्कत (गा १७१) । कक्क
चक्कित्तजन, चक्कयोअत (वि २००) । सट्ट
चक्कित्तऊण (से १३, २६) । हेह चक्कित्तइ
(वज्जा ४६) ।

चक्कित्तअ न [दे] जोनितव्य, जीवन (दे
३, ६) ।

चक्कित्तण न [आस्वादन] आस्वादन, चीना
(उप ४ २५२) ।

चक्कित्तअ वि [अस्वादिअ] आस्वादिन, चीना
हुमा (हे ५, २५८, गा ६३, वज्जा ४६) ।

चक्कित्तिय न [चक्कित्तिय] नमनेन्द्रिय,
मांस, वस्तु (उत्त २६, ६३) ।

चक्खु पुन [चक्षुप्] १ अंग, नेत्र, वस्तु
(हे १, ३३, सुर ३, १५३, सन १) । २

पु ह्म नाम का एक कुनकर पुत्र (नन
३, ५३) । ३ न देखो नीने °दसग (नन
३, १७, ४, ६) । ४ जान, वाप (ठा
४) । ५ दर्शन, अवलोकन (भावा) । °ई
पु [°कान्त] देव-विशेष, कुण्डोअ समुद्र न
अविद्याता देव (जीव ३) । °ईना क

[°कान्ता] एक कुलकर पुत्र की पत्नी
(सम १५०) । °दसग न [°दजान] तु
से वस्तु का सामान्य जान (मम १५) ।
°दसगणडिगा स्त्री [°दर्शनप्रतिज्ञा] पत्नी

से देखने का नियम, नमनेन्द्रिय का रूप
(निनु ६, आवा २, २) । °दण वि [°ण]
जान-दाता (सम १, पठि) । °पटिणंण क

[°प्रतिलेया] आँसु में देवता (निनु १) ।
°परिणान न [°परिजान] स्वयम्भूत
जान, आँसु में होनेवाला जान (भावा) । °प

पु [°पथ] नेत्र मार्ग, नयन-मांस (न
१, ३) । °फास पु [°स्पर्शी] दर्शन, पर
लोकन (श्रौप) । °भोय वि [°भो]

अवलोकन मात्र में ही उदाहृता (भावा) ।
°म, °मन वि [°मन्] १ नेत्र-बुद्धि,
आँसु-जाला (विने) । २ पु एक कुनकर पुत्र

का नाम (मम १५०) । °लोत्त वि [°लोत्त]
देवता का शीरीष, जिनकी नमनेन्द्रिय मया

न हो वह (वस) । °लोत्तु वि [°लोत्तु]
वही पूर्वोक्त अर्थ (वस) । °लोत्तणंणम वि

[°लोत्तणंण] मुख्य, मुख्य अस्त्र
(राव, जीव ३) । °वित्तिय वि [°वित्तिय]
हत्] दृष्टि से आगिनि (वव ८) । °प

पु [°अयस्] नर्ष, नाँव (म ३३५) ।
चक्कणुण न [दे] प्रेरणा, उम्मा (दे
२, ४) ।

चक्कणुण देता चक्कणुम (मान) ।
चक्कणुणुणगी स्त्री [दे] मरता करती (दे
३, ७) ।

चक्कणुम वि [चक्कणु] अस्त्र म देता चक्क
वस्तु, नया-यात्र (पण १, १, पि-३३१) ।

चक्कणुणुणु [चक्कणुणु] अस्त्र (मम १००) ।
चक्कणु देता चक्कणु (मान) ।

कवक गोविज्जत (सुपा ३३७, सुर ११, १६२, प्रासू ६५) ।

गोव } पु [गोप] गौमो का रक्षक, ग्वाला,
गोवअ } गोपाल (उवा ७, दे २, ५८,
कप्प) । °जिरि पु [°गिरि] पवंत विशेष,
'गोवगिरिसिहरसंठियचरमजिणायणदारमव-
रुद्धं (सुणिए १०८६७) ।

गोवड्ढण देखो गोवद्धण (पि २६१) ।

गोवण न [गोपन] १ गृहण । २ छिपाना
(आ २८, उप ५६७ टी) ।

गोवद्धण पु [गोवर्धन] १ पवंत-विशेष (पि
२६१) । २ ग्राम विशेष (पउम २०, ११५) ।

गोवय वि [गोपक] छिपानेवाला, ढांकनेवाला
(सवोष ३४) ।

गोवर पुन [द] गोवर, गोमय, गो-विष्ठा (दे
२, ६६, उप ५६७ टी) ।

गोवर पु [गोवर] १ मगध देश का एक गाँव,
गौतम-स्त्रामी की जन्मभूमि (आक) । २
वरिण-विशेष (उप ५६७ टी) ।

गोवल न [गोबल] १ गोघन, गोकुल, गौमो
का समूह, 'रिति गोवलाइ' (सुपा ४३३) ।
२ गोत्र विशेष (सुज १०) ।

गोवलायण देखो गोवहायण (सुज १०) ।
गोवलिय पु [गोबलिक] ग्वाला, अहीर
(सुपा ४३३) ।

गोवल पुन [गोवल] गोत्र-विशेष (सुज १०,
१६ टी) ।

गोवहायण वि [गोवहायन] १ गोवल गोत्र
में उलयत्त । २ न गोत्र विशेष (इक) ।

गोवा पु [गोपा] गौमो का पालन करने-
वाला, ग्वाला (प्राप्ता) ।

गोवाय सक [गोपाय] १ छिपाना । २
रक्षण करना । वक गोवायत (उप ३५७) ।

गोवाल पु [गोपाल] गौ पालनेवाला, ग्वाला,
अहीर (दे २, २८) । °गुज्जरी स्त्री [°गुज्जरी]
भैरव रामनाली भाषा-विशेष, गुजरात के
अहीरो का गीत (कुमा) ।

गोवाल्य पु [गोपालक] ऊपर देखो (पउम
५, ६६) ।

गोवालि पु [गोपालिन] ग्वाला, गोप,
अहीर (सुपा ४३२, ४३३) ।

गोवालिगी स्त्री [गोपालिनी] गोप-स्त्री, अही-
रिन, ग्वालि (सुपा ४३२) ।

गोवालिय पु [गोपालिक] गोप, अहीर,
ग्वाला (सुपा ४३३) ।

गोवालिया स्त्री [गोपालिका] गोप-स्त्री, गोपी,
अहीरिन (राया १, १६) ।

गोवाली स्त्री [गोपाली] वल्ली-विशेष (पएण
१) ।

गोविअ वि [दे] अजल्पाक, नहीं बोलनेवाला
(दे २, ६७) ।

गोविअ वि [गोपित] १ छिपाया हुआ । २
रक्षित (सुर १, ८८, तिर १, ३) ।

गोविआ स्त्री [गोपिका] गोपागना, अहीरिन
(कुमा, गा ११४) ।

गोविद पु [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ख्यात एक
योग-विषयक ग्रन्थकार । २ एक जैनमुनि
(पचव, एदि) ।

गोविद पु [गोविन्द] १ विष्णु, कृष्ण । २
एक जैन मुनि (ठा १०) । °गिञ्जुत्ति स्त्री
[°निर्युत्ति] इस नाम का एक जैन दार्शनिक
ग्रन्थ (निचू ११) ।

गोविह न [दे] कलठुक, चोली (दे २, ६४) ।

गोवी स्त्री [दे] बाला, कन्या, कुमारी, लडकी
(दे २, ६६) ।

गोवी स्त्री [गोपी] गोपागना, अहीरिन (सुपा
४३५) ।

गोव्वर [दे] देखो गोवर (उप ५६३, ५६७
टी) ।

गोस पुन [दे] प्रमात, सुबह, प्रात काल (दे
२, ६६, सण, गउड, वव ६, पचव २,
पाअ, षड्, पव ४) ।

गोसविय पु [गोसधित] गोपाल, अहीर
(राज) ।

गोसग्ग पुन [दे गोसर्ग] प्रात काल, प्रमात
(दे २, ६६, पाअ) ।

गोसण वि [दे] मूर्ख, बेवकूफ (दि २, ६७,
पड्) ।

गोसाल } पु व. [गोशाल] १ देश विशेष
गोसालग } (पउम ६८, ६५) । २ पुं. भगवान्
महावीर का एक शिष्य, जिसने पीछे अरपना
आजोविक मत चलाया था (भग १५) ।

गोसाविआ स्त्री [दे] १ बेरया, वारागना
(मृच्छ ५५) । २ मूर्ख-जननी (जाट—मृच्छ
७०) ।

गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रात काल-सबन्धी
(सण) ।

गोसीस न [गोशीर्ष] चन्दन-विशेष, सुगन्धित
काष्ठ विशेष (पएह २, ४, ५, कप्प, सुर ४,
१४, सण) ।

गोह पु [दे] १ गाँव का मुखिया (दे २, ८६) ।
२ भट, सुभट, योद्धा (दे २, ८६, महा) ।
३ जार, उपपति (उप पु २१५) । ४ सिपाही,
पुलिस (उप पु ३३५) । ५ पुरुष, आदमी,
मनुष्य (मृच्छ ५७) ।

गोह पु [दे] कोतवाल आदि क्रूर मनुष्य (सुख
३, ६) । २ वि ग्रामीण, ग्राम्य, गँवार या
गँवारू, देहाती (सुख २, १३) ।

गोहा देखो गोधा (दे २, ७३, भग ८, ३) ।

गोहिया स्त्री [गोधिका] १ गोधा, गोह, जल-
जन्तु-विशेष (सुर १०, १८६) । २ साँप की
एक जाति (जीव २) । ३ वाद्य-विशेष
(अणु) ।

गोहुर न [दे] गोमय, गो-विष्ठा (दे २, ६६) ।

गोहूम पु [गोधूम] अन्न-विशेष, गेहूँ (कस) ।

गोहेर } पु [गोधेर] जन्तु-विशेष, सर्प
गोहेरय } की तरह का जानवर (पउम ४८,
६२, ६१) ।

°ग्गह देखो गह = ग्रह (गउड) ।

°ग्गहण देखो गहण = ग्रहण (अभि ५६) ।

°ग्गहण देखो गहण = ग्रहाण (कुमा)

चडुला छी [दे] रत्न तिलक, सोने की मेखला मे लटकता हुआ रत्न निर्मित तिलक (दे ३, ८)।

चडुलातिलय न [दे] ऊपर देखो (दे ३, ८)।

चडुलिया छी [दे] अन्त भाग मे जला हुआ घास का पूला, घास की झांटी (एदि)।

चडु सक [मृद] मर्दन करना, मसलना। चडुइ (हे ४, १२६)। प्रयो. चडुवाए (सुपा ३३१)।

चडु सक [पिप्] पीसना। चडुइ (हे ४, १८५)।

चडु सक [भुज] भोजन करना, खाना। चडुइ (हे ४, ११०)।

चडु न [दे] तैल-पात्र, जिसमें दीपक किया जाता है, गुजराती में 'चाडु' (सुपा ६३८, वृह १)।

चडुण न [भोजन] भोजन, खाना। २ खाने की वस्तु, खाद्य-सामग्री (कुमा)।

चडुवाछी छी [चडुवाछी] इस नाम की एक नगरी, जहाँ श्रीधनेश्वर मुनि ने विक्रम की ग्यारहवीं सदी मे 'सुरसुदरी-चरित्र' नामक प्राकृत काव्य रचा था (सुर १६, २४६)।

चडुिअ वि [मृदित] मसला हुआ, जिसका मर्दन किया गया हो वह (कुमा)।

चडुिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा)। चडु देखो चड = भा + रह। सक चडिऊण (सम्मत १५६)।

चडण देखो चडण (संशोध २८)।

चण } पु [चणक] चना, अन्न विशेष
चणअ } (ज ३, कुमा, गा ५५७, दे १, २१)।

चणइया छी [चणकिका] मसूर, अन्न-विशेष (ठा ५, ३)।

चणग देखो चणअ (सुपा ६३१, सुर ३, १४८)। गाम पु [ग्राम] ग्राम-विशेष, गौड देश का एक ग्राम (राज)। पुर न [पुर] नगर-विशेष, राजगृह-नगर का असली नाम (राज)।

चणयगगाम देखो चणग-नाम (घर्मेवि ३८)।

चणोडिया छी [दे] गु जा। गु० 'चणोड्यी', देखो कोणोडिया (अनु० वृ० हारि० पत्र ७६)।

चत्त पुन [दे] तकू, तकुआ, सूत बनाने का यन्त्र, तकली (दे ३, १, घर्मे २)।

चत्त वि [त्यक्त] छोटा हुआ, परित्यक्त (पएह २, १, कुमा १, १६)। २ सूत की झांटी (प्रश्नव्या० ८०, १)।

चत्तर देखो चच्चर (पि २६६, नाट)।

चत्ता देखो चत्तालीसा (जवा)।

चत्ता छी [चर्चा] १ शरीर पर सुगन्धी वस्तु का विलेपन। २ विचार, चर्चा (प्राक ३८)।

चत्ताल वि [चत्तारिंश] चालीसवां (पउम ४०, १७)।

चत्तालीस न [चत्वारिंशत्] १ चालीस, ४०, 'चत्तालीस विमाणावाससहस्ता परएणतो' (सम ६६, कप्प)। २ वि चालीस वर्ष की उम्रवाली, 'चत्तालीसस्स विद्याए' (तदु)।

चत्तालीसा छी [चत्वारिंशत्] चालीस, ४०, 'तीसा चत्तालीसा' (पएण २)।

चत्थरि पुळी [दे चत्तरि] हास, हास्य (दे ३, २)।

चपेटा छी [दे चपेटा] कराघात, थपड, तमाचा (षड्)।

चप्प सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना, दबाना। सक चप्पवि (अवि)।

चप्प सक [चर्च] अध्ययन करना। २ कहना। ३ भर्त्सना करना। ४ चन्दन आदि से विलेपन करना। चप्पइ (प्राक ७५, सखि ३५)।

चप्पडग न [दे] काष्ठ-यन्त्र-विशेष (पएह १, ३—पत्र ५३)।

चप्परण न [दे] तिरस्कार, निरास (गु ६)।

चप्पलअ वि [दे] १ असत्य, झूठा (कुमा ८, ७६)। २ बहुमिथ्यावादी, बहुत झूठ बोलने-वाला (षड्)।

चप्पिय वि [आक्रान्त] आक्रान्त, दबाया हुआ (अवि)।

चप्पुडिया } छी [चप्पुटिका] चपटी, बूटकी,
चप्पुडी } अगुष्ठ के साथ अगुली की ताली (शाया १, ३—पत्र ६५, दे ८, ४३)।

चप्पल } न [दे] शेर-विशेष, एक तरह
चप्पलय } का शरीरभूषण। २ वि असत्य, झूठा, मिथ्याभाषी (दे ३, २०, हे ३, ३८, कुमा ८, २५)।

चमक पु [चमत्कार] विस्मय, आश्चर्य 'सजरियणयणचमकको' (धम्म ६ टी, ज ७६८ टी)। थर वि [कर] विस्मय-जनक (सए)।

चमक } सक [चमत् + क्] विस्मित
चमकर } करना, आश्चर्यान्वित करना।
चमकइ, चमकति (विदे ४३, ४८) वह
चमकरत विक्र ६६)।

चमकार पु [चमत्कार] आश्चर्य, विस्मय (सुर १०, ८, जवा २४)।

चमकिअ वि [चमत्कृत] विस्मित, आश्चर्यान्वित (सुपा १२२)।

चमड } सक [भुज] भोजन करना, खाना।
चमड } चमडइ (षड्) चमडइ (हे ४, ११०)।

चमड सक [दे] १ मर्दन करना, मसलना। २ प्रहार करना। ३ कदर्थन करना, पीडना। ४ निन्दा करना। ५ आक्रमण करना। ६ उद्विग्न करना, खिन्न करना। क्वक चम-डिज्जत (श्रीष १२८ भा. वृह १)।

चमडण न [भोजन] भोजन, खाना (कुमा)।

चमडण न [दे] १ मर्दन, अवमर्दन (श्रीष १८७ भा. स २२)। २ आक्रमण (स ५७६)। ३ कदर्थन, पीडन। ४ प्रहार (श्रीष १६३)। ५ निन्दा, गर्हण (श्रीष ७६)। ६ वि जिसकी कदर्थना की जाय वह (श्रीष २३७)।

चमडणा छी [दे] ऊपर देखो (वृह १)।

चमडिअ वि [दे] मृदित, विनाशित (व २)।

चमर पु [चमर] पशु-विशेष, जिसके बालों का चामर या चँवर बनता है, 'वराहरुचमरसे-विए रएणे' (पउम ६४, १०५, पएह १, १)। २ पु पाँचवें जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम १५२)। ३ दक्षिण दिशा के असुरकुमारों का इन्द्र (ठा २, ३)। चच पु [चच्च] चम-रेन्द्र का आवास-मन्वत (मग १३, ६)। चचा छी [चच्च] चमरेन्द्र की राजधानी, स्वर्ग पुरी-विशेष (शाया २)। पुर न [पुर] विद्याधरो का नगर-विशेष (इक)।

चमर पुन [चामर] चँवर, चामर, बाल-व्यजन (हे १, ६७)। धारी, हारी की

घडाघडी स्त्री [दे] गोष्ठी, सभा, मण्डली (पद्)।

घडाव सक [घटय्] १ बनाना। २ बनवाना। ३ संयुक्त करना, मिलाना। घडावइ (हे ४, ३४०)। सक्र. घडावित्ता (भावम)।

घडि वि [घटिन्] घटवाला (अणु १४४)। घडि स्त्री [घटी] देखो घडिआ = घटिका (प्रासू ५५)। °मतय, °मत्तय न [°मात्रक] छोटे घडे के आकार का पात्र-विशेष (राज, कस)। °जत न [°यन्त्र] रेंट रेंट पानी निकालने का कल (पात्र)।

घडिअ वि [घटित्] १ कृत, निर्मित (पात्र)। २ ससक सबद्ध, छिष्ट, मिला हुआ (पात्र, स १६४, औप, महा)।

घडिअघडा स्त्री [दे] गोष्ठी, मण्डली (दे २, १०५)।

घडिआ स्त्री [घटिका] १ छोटा घडा, कलशी (गा ४६०, आ २७)। २ घडी, मुहूर्त (सुपा १०८)। ३ समय बतानेवाला यन्त्र, घटी-यन्त्र, घडी (पात्र)। °लय न [°लय] घण्टागृह, घण्टा बजाने का स्थान (सुर ७, १७)।

घडिआ स्त्री [दे] गोष्ठी, मण्डली (पद्, घडी } दे २, १०५)।

घडिगा देखो घडिआ (सूत्र १, ४, २, १४)। घडी स्त्री [घटी] देखो घडिआ (स २३८, प्राक)।

घडुक्य पु [घटोत्कच] भीम का पुत्र (हे ४, २६६)।

घडुटभव वि [घटोद्भव] १ घट से उत्पन्न। २ पु ऋषि-विशेष, भ्रगस्त्य मुनि (प्राक)।

घढ न [दे] शूहा, टीला, स्तूप (पात्र)।

घण पु [घन] १ मेघ, बादल (सुर १३, ४५, प्रासू ७२)। २ हथौडा (दे ६, ११)। ३ गरिष्ठ-विशेष, तीन अर्कों का पूरण करना, जैसे दो का घन आठ होता है (ठा १०—पत्र ४६६, विसे ३५४०)। ४ वाद्य का शब्द-विशेष, कास्यताल वगैरह (ठा २, ३)। ५ वि दृढ, ठोस (औप)। ६ अश्विरल, निरिद्ध, निरिद्ध, साद्ध (कुमा, औप)। ७ गाढ, प्रगाढ, 'नाया पीई घणा तेसि' (उप ३६

५६७ टी)। ८ अतिशय, अधिक, अत्यन्त (राय)। ९ कठिन, तरलता-रहित, स्थान (जी ७, ठा ३, ४)। १० न. देवविमान-विशेष (सम ३७)। ११ पिएड (सूत्र १, १, १)। १२ वाद्य-विशेष (सुज १२)। °उदहि देखो घणोदहि (भग)। °णित्य वि [°णित्] अत्यन्त निरिद्ध (भग ७, ८, औप)। °तव न [तपस्] तपश्चर्या-विशेष (उत्त ३)। °दत्त पु [°दन्त] १

इस नाम का एक अन्तर्द्वीप। २ उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २)। °गाल न [°माल] वैताव्य पर्वत पर स्थित त्रिगिर-नगर-विशेष (इक)। °मुद्ग पु [°मृदङ्ग] मेघ की तरह गम्भीर आवाजवाला वाद्य विशेष (औप)। °रह पु [°रथ] एक जैन मुनि (पउम २०, १६)। °वाउ पु [°वायु] स्थान वायु, जो नरक-पृथिवी के नीचे है (उत्त ३६)। °वाय पु [°वात] देखो °वाड (भग, जी ७)। °वाहण पुं [°वाहन] विद्याधरो के राजा का नाम (पउम ५, ७७)। °विज्जुआ स्त्री [°विद्युता] देवी-विशेष, एक दिक्कुमारी देवी का नाम (इक)। °समय पु [°समय] वर्षा-काल, वर्षा ऋतु (कुमा पात्र)।

घणगुल पुन [घनाङ्गुल] परिमाण-विशेष, सूची से गुना हुआ प्रतरगुल (अणु १५८)।

घणसमइ पु [घनसमई] ज्योतिष-प्रसिद्ध योग विशेष, जिसमें चन्द्र या सूर्य ग्रह अथवा नक्षत्र के बीच में होकर जाता है वह योग (सुज १२—पत्र २३३)।

घणघणाइय न [घनघनायित्] रथ की घनघनाहट या गडगडाहट, अव्यक्त शब्द-विशेष (परह १, ३)।

घणवाहि पु [दे] इन्द्र, स्वर्गपति (दे २, १०७)।

घणसार पु [घनसार] कपूर (पात्र, भवि)। °मजरी स्त्री [°मञ्जरी] एक स्त्री का नाम (कप्पु)।

घणा स्त्री [घना] धरणेन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी-विशेष (गाया २, १—पत्र २५१)।

घणा स्त्री [घृणा] घृणा, जुगुप्सा, गर्हा (प्राप्र)।

घणिय न [घनित्] गर्जना, गर्जन (सुज २०)।

घणोदहि पुं [घनोदधि] पत्थर की तरह कठिन जल-समूह (सम ३७)। °वल्य न [°वल्य] वलयकार कठिन जल-समूह (परण २)।

घण पु [दे] १ उर, वसस्, छाती। २ वि रक्त, रगा हुआ (दे २, १०५)। ३ घात्य, मार डालने योग्य (सून कृ० २-७, पत्र ४१०)।

घत्त सक [क्षिप्] १ फेंकना, डालना। २ प्रेरणा। घत्तइ (हे ४, १४.)। सक्र. अक्रामो घत्तिअण वरवीण' (पउम ५८, २०, स ३५१)।

घत्त सक [ग्रह्] ग्रहण करना। भवि. घत्तिस्स (प्रयौ ३३)।

घत्त सक [गवेपय्] खोजना, हूँदना, अनु-सधान करना। घत्तइ (हे ४, १८६)। सक्र. घत्तिअ (कुमा)।

घत्त सक [यन्] यत्न करना, उद्योग करना। घत्तह (तदु ५६)।

घत्त वि [घात्य] १ मार डालने योग्य। २ जो मारा जा सके (पि २८१, सूत्र २, ७, ६, ८)।

घत्तण न [क्षेपण] फेंकना (कुमा)।

घत्ता स्त्री [घत्ता] छन्द विशेष (पिंग)।

घत्ताणद न [घत्तानन्द] छन्द-विशेष (पिंग)।

घत्ति अ [दे] शीघ्र, जल्दी (प्राक ८१)।

घत्तिय वि [क्षिप्] प्रेरित (स २०७)।

घत्तु वि [घातुक] मारनेवाला, घातक, जह्लाद (उत्त १८, ७)।

घत्थ वि [ग्रस्त] गृहीत, पकडा हुआ (पिड ११६)।

घत्थ वि [ग्रस्त] १ भक्षित, निगला हुआ, कवलित (पउम ७१, ५१, परह १, ५)। २ आक्रान्त, अभिभूत (सुपा ३५२, महा)।

घम्म पु [चर्म] घाम, गरमी, सताप, घूप (दे १, ८७, गा ४१४)। २ पसीना, स्वेद (हे ४, ३२७)।

घम्मा स्त्री [घर्मा] पहली नरक-पृथिवी (ठा ७)।

घम्मोई स्त्री [दे] तृण-विशेष (दे २, १०६)।

घम्मोडी स्त्री [दे] १ मध्याह्न काल। २ भशक, भच्छर, क्षुद्र जन्तु-विशेष। ३ ग्रामणी नामक-चूण (दे २, ११२)।

(३, ७) । ^०करण न [करण] समय का मूल और उत्तर गुण (सूत्र १, १ सम्म १६४) । ^०करणाणुओग पुं [करणानुयोग] संयम के मूल और उत्तर गुणों की व्याख्या (निचू १५) । ^०कुसील पु [कुशील] चारित्र को मलिन करनेवाला साधु, शिथिलाचारी साधु (पव २) । ^०णय [नय] क्रिया को मुख्य माननेवाला मत (आचा) । ^०मोह पुन [मोह] चारित्र का आचारक कर्म-विशेष (कम्म १) ।

चरम वि [चरम] १ अन्तिम, अन्त का, पर्यन्तवर्ती (ठा २, ४, भग ८, ३, कम्म ३, १७, ४, १६, १७) । २ अनन्तर भव मे मुक्ति पानेवाला । ३ जिसका विद्यमान भव अन्तिम हो वह (ठा २, २) । ^०काल पु [काल] मरणसमय (पचव ४) । ^०जलहि पु [जलधि] अन्तिम समुद्र, स्वयम्भूरमण समुद्र (सहस्र २) ।

चरमत पु [चरमान्त] सब से अन्तिम, सब से प्रान्त-वर्ती (सम ६६) ।

चरय देखो चरम (श्रौप, शाया १, १५) ।
चरि पुत्री [चरि] १ पशुओं को चरने की जगह । २ चारा, पशुओं को खाने की चीज, घास (कुप्र १७) ।

चरिग देखो चरिया = चरिका (राज) ।

चरित्त न [चरित्र] १ चरित, आचरण । २ व्यवहार (भवि, प्रासू ४०) । ३ स्वभाव, प्रकृति (कुमा) ।

चरित्त न [चरित्र] जीवन कथा, जीवनी, बहानी (सम्मत् १२०) ।

चरित्त न [चारित्र] संयम, विरति, व्रत, नियम (ठा २, ४, ४, ४, भग) । ^०कप्प पु [कप्प] समयानुष्ठान का प्रतिपादक ग्रन्थ (पचभा) । ^०मोह पुन [मोह] कर्म-विशेष, संयम का आचारक कर्म (भग) । ^०मोहणिज्ज न [मोहणीय] वही पूर्वोक्त अर्थ (ठा २, ४) । ^०चरित्त न [चारित्र] आधिक संयम, आचरक-कर्म (पडि, भग ८, २) । ^०धार पु [धार] संयम का अनुष्ठान (पडि) । ^०रिय पु [रिय] चारित्र से आर्य, विशुद्ध चारित्रवाला, साधु, मुनि (परण १) ।

चरित्ति पुंल्लो [चारित्रिच्च] संयमवाला, साधु, मुनि (उप ६६६, पंचव १) ।

चरिम देखो चरम (सुर १, १०, श्रौप, भग, ठा २, ४) ।

चरिय पुं [चरि] चर-पुरुष, जासूस, दूत (सुपा ५२८) ।

चरिय न [चरित] १ चेटित, आचरण (श्रौप, प्रासू ८६) । २ जीवनी, जीवन-चरित (सुपा २) । ३ चरित्र-ग्रन्थ (सुपा ६५८) । ४ सेवित, आश्रित (परह १, ३) ।

चरिया ली [चरिका] १ परिप्राजिका, सन्धा-सिनी (श्रौष ५६८) । २ किला और नगर के बीच का मार्ग (सम १३७, परण १, १) ।

चरिया ली [चर्या] १ आचरण, अनुष्ठान, 'दुक्करचरिया मुणिवराण' (पत्तम १४, १५२) । २ गमन, गति, विहार (सूत्र १, १, ४) । ३ गाड़ी (आख्या० पत्र ११ गा ६८) ।

चरीया देखो चरिया = चर्या, 'तण्णफासो चरीया य दसेक्कारस जोगिसु' (पच ४, २०) ।

चरु पु [चरु] स्थाली-विशेष, पात्र-विशेष (श्रौप, भवि) ।

चरुणिणय देखो चारुण्य (इक) ।

चरल्लोच न [दे] नाम, आख्या (दे ३, ६) ।

चल सक [चल्] १ चलना, गमन करना । २ अक कापना, हिलना । चलइ (महा, गडड) । वक्क चलत, चलमाण (गा ३५६, सुर ३, ४०, भग) । हेक्क चल्लिड (गा ४८४) । प्रयो सक्क चल्लिज्जा (दम ५, १) ।

चल वि [चल] १ चंचल अस्थिर (स ४२०, वजा ६६) । २ पु रावण का एक सुभट (पत्तम ५६, ३६) ।

चलचल वि [चलचल] १ नचल, अस्थिर, 'वलचलयकीटिमोडणकराई नयणाइ तरणोण' (वजा ६०) । २ पु धी में तनी जानी हुई चीज का पहला तीन घान (निचू ४) ।

चलण पुं [चरण] पाव, पैर, पाद (श्रौप, ने ६, १३) । ^०मालिया ली [मालिका] पैर वा आभूषण-विशेष (परह २, ५, श्रीन) । ^०चण्ण न [चण्ण] पैर पर फिर छुना पर प्रणाम, प्रणाम-विशेष (पत्तम ८, २०६) ।

चलण न [चलन] चलना, गति, चाल, प्रग, रिवाज (सि ६, १३) ।

चलणा ली [चलना] १ चलन, गति । २ कम्म, हिलन (भग १६, ६) ।

चलणाउह पु [चरणायुध] कुत्तुन कुन (दे ३, ७) ।

चलणाओह पु [दे चरणायुध] जार (पड्) ↓

चलणिया ली [चलनिका] नीचे देखा (कम ६७६) ।

चलणिया } ली [चलनिमा, नी] के
चलणी } साधियों को पहनने का री
वस्त्र (पव ६२) ।

चलणी ली [चलनी] १ साधियों का एक उपकरण (श्रौष ३१५ भा) । २ पैर तब तक कीच (जीव ३, भग ७, ६) ।

चलचलण न [दे] चटपटाई, चंचलता (पत्तम १०२, ६) ।

चलाचल वि [चलाचल] कचन, कंचन (पत्तम ११२, ६) ।

चल्लिटिय वि [चल्लेत्तिय] इन्द्रिय निपन्न बल मे असमर्थ, जिसकी इन्द्रियां ताड़ में न ह वह (आचा २, ५, १) ।

चल्लिअ न [चल्लिन] १ विवचनता, कर्मेण, चंचलता (पात्र) । २ वि चला हुआ, कंचन (आवम) । ३ प्रवृत्त (पात्र, श्रौप) । ४ लिप्य (धम्म २) ।

चल्लि वि [चल्लि] चलनेवाला, पवि-चपल चंचन, 'चल्लिअमराती' (प १६६ मुपा ७६, २५७, स ४१) ।

चल्ल देखो चल = चल । पत्तम (ह ४, २१ पड्) ।

चल्लणग न [दे] जपताभूषण, गटिनग (प ११)
चल्लि ली [दे] गच्चो नमय की लक्ष्मी की गति (कम्पू) ।

चल्लि ली [दे] मदन-वैराग्य (श्रीन १०) ।
चल्लिअ देखो चल्लिअ (सुर २, ६१, प ५०) ।

चर न [चरय] कहाँ बोलना । २ (हे ४, ३) । कम्म, चरित्र (कुमा) । ३ चरित्र (भवि) ।

घसुमर वि [घसुमर] खाने की आदतवाला, बाधुक (प्राक २८) ।

घाइ वि [घातिन्] घातक, नाशक, हिसक (गा ४३७, विसे १२३८, भग) । °कर्म न [°कर्मन्] कर्म-विशेष, ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म (श्रत) । °चउक्क न [चतुष्क] पूर्वोक्त चार कर्म (प्राह) ।

घाइअ वि [घातिन्] १ मारित, विनाशित (गाया १, ८, उव) । २ घवाया हुआ, जो शक्ति-शून्य हुआ हो, सामर्थ्यरहित, 'करणाइ घाइयाइ जाया अह वेयणा मदा' (सुर ४, २३६) ।

घाइआ ली [घातिक] १ विनाश करनेवाली ली, मारनेवाली ली (ज २) । २ घात, हत्या । ३ घाव करना (सुर १६, १५०) ।

घाइजमाण } देखो घाय = हन् ।
घाइयव्व }

घाइयव्व देखो घाय = घातय् ।

घाइर वि [घायिन्] सूँघनेवाला (गा ८८६) ।

घाउकाम वि [हन्तुकाम] मारने की इच्छा-वाला (गाया १, १८) ।

घाएत देखो घाय = हन् ।

घाइ अक [अंश] अष्ट होना, च्युत होना । घाइ (षड्) ।

घाइ पु [घाट] १ मित्रता, सौहार्द (बृह गाया १, २) । २ मस्तक के नीचे का भाग (गाया १, ८—पत्र १३३) ।

घाइयि वि [घाटिक] वयस्य, मित्र (गाया १, २ बृह १) ।

घाइरुय पु [दे] खरगोश की एक जाति (?) 'जे तुह सगुहासारज्जुनिबद्धा दुह मए रुद्धा । घाइरुयसय्या इव अवधया ते पत्तायति' (उप ७२८ टी) ।

घाण पु [दे] १ घानी, कोल्हू, तिल-पीडन-यन्त्र (पिंड) । २ घान, चक्की आदि में एक बार डालने का परिमाण (सुपा १४) ।

घाण पुंन [घ्राण] नाक, नासिका, 'दो घाणा' (पुएण १५, उप ६४८ टी; दे २, ७६) । 'रिस पुन [रिस्] नासिका में होने-वाला रोग-विशेष, पीनस (श्लो १८४ भा) ।

घाणिदिय न [घ्राणेन्द्रिय] नासिका, नाक (उत्त २६) ।

घाय सक [हन्] मारना, मार डालना, विनाश करना । वक्क घाएह (उव) । वक्क घाएत रिउभडहवे' (पउम ६०, १७) । घायत (पउम २४, २६, विसे १७६३) । कवक्क 'से धणे चिलाएण चोरसेणावइणा पचहि चोर-सएहि सद्धि गिह घाइजमाण पासइ' (गाया १, १८) । वक्क घाइयव्व (पउम ६६, ३४) । घाय सक [घातय्] मरवाना, दूसरे द्वारा मार डालना, विनाश करवाना । वक्क घायमाण (सूत्र २, १) । क्क घाइयव्व (पउम ६६, ३४) ।

घाय पु [घात] गमन, गति (सुज १, १) ।

घाय पुं [घात] १ प्रहार, चोट, वार (पउम ५६, २५) । २ नरक (सूत्र १, ५, १) । ३ हत्या, विनाश, हिंसा (सूत्र १, १, २) । ४ ससार (सूत्र १, ७) ।

घायग वि [घातक] मार डालनेवाला, विनाशक (स २६४, सुपा २०७) ।

घायण न [हन्न] १ हत्या, नाश, हिंसा (सुपा ३४६, द्र २६) । २ वि हिंसक, मार डालनेवाला (स १०८) ।

घायण पु [दे] गायक, गवैया (दे २, १०८, हे २, १७४, षड्) ।

घायणा ली [हन्न] मारना, हिंसा, वध (पएह १, १) ।

घायय देखो घायग (विसे १७६३, स २६७) ।

घायय पु [घातक] नरक-स्थान विशेष (देवेन्द्र २६, ३०) ।

घायावणा ली [घातना] १ मरवाना, दूसरे द्वारा मारना । २ लूटपाट मचवाना, 'बहुग्गा-मवायावणाहिं ताविया' (विपा १, ३) ।

घार अक [घारय्] १ विष का फैलना, विष की असर से बेचैन होना । २ सक. विष से बेचैन करना । ३ विष से मारना । कर्म. 'घारिज्जतो य तओ विसेण' (स १८६) । हेक्क घारिज्जउ (स १८६) ।

घार पु [दे] प्रकार, किला, दुर्ग (दे २, १०८) ।

घारत पु [दे] घृतपूर, घेवर, एक प्रकार की मीठाई (दे २, १०८) ।

घारण न [घारण] विष की असर से होने-वाली बेचैनी (सुपा १२४) ।

घारिय वि [घारित] जो विष की असर में बेचैन हुआ हो, 'तत्तओ भोगो । सव्वत्य तदुवघाया विसघारियभोगल्लोत्ति' (उप ४४२), 'विसवा (? घा) रियस्य जह वा घएणन्दएकामिणीसगो' (उवर ६७), 'विसघारिओ सि घत्तूरिओ सि मोहेए किं व ठगिओ सि' (सुपा १२४, ४४७) ।

घारिया ली [दे] मिष्टान-विशेष, गुजराती में जिसे 'घारी' कहते हैं (भवि) ।

घारी ली [दे] १ शकुनिका, पक्षि-विशेष (दे २, १०७, पात्र) । २ छन्द-विशेष (पिग) ।

घास सक [घृप्] १ घिसना । २ पीडा करना । कर्म घासइ (सूत्र १, १३, १५) ।

घास पु [घास] तृण, पशुओं को खाने का तृण (दे २, ८५, श्रौप) ।

घास पु [आस] १ कवल, कौर (श्रौप, उत्त २) । २ आहार, भोजन (आचा, श्लो ३३०) ।

घास पु [घर्ष] घर्षण, रगड़, 'जो मे उवज्जि-ओ इह कररुहसणेण चरणघासेण' (सुपा १४) ।

घाससणा ली [आसैपणा] आहार-विषयक शुद्धि अशुद्धि का पर्यालोचन (श्लो ३३८) ।

घि देखो घे । भवि घिच्छिइ (विसे १०२३) । कर्म. घिप्पति (प्रासू ४) । सक घित्तूण (कुमा ७, ४६) । हेक्क. घित्तु (सुपा २०६) । क्क. घित्तव्व (सुर १४, ७७) ।

घिअ न [घृत] घी, घीव, आज्य (गा २२) । घिअ वि [दे] भस्मित, तिरस्कृत, अवधीरित (दे २, १०८) ।

घिं } पु [श्रीष्म] १ गरमी की ऋतु, श्रीष्म घिसु } काल, 'घिसिसिरवासे' (श्लो ३१० भा; उत्त २, ८; पि ६, १०१) । २ गरमी, अभिताप (सूत्र १, ४, २) ।

घिट्ट वि [दे] कुम्भ, कूबडा (दे २, १०८) ।

घिट्ट वि [घृष्ट] घिसा हुआ, रगडा हुआ (सुपा २७८, गा ६२६ अ) ।

घिणा ली [घृणा] १ घृणप्ता, अस्चि । २ दया, अनुकम्पा (हे १, १२८) ।

घिणिल्ल वि [घृणावत्] घृणावाला, नफ-रत करनेवाला (पिंड १७६) ।

चाउम्मासी ली [चातुर्मासी] देखो चाउ-
म्मासिअ (धर्म २, प्राय)।

चाउरग देखो चउरग (पउम २, ७५)।

चाउरगि देखो चउरगि (भग, एया १,
१—पत्र ३२)।

चाउरगिज वि [चतुरङ्गीय] १ चार भ्रगो
से सम्बन्ध रखनेवाला। २ न 'उत्तराध्ययन'
सूत्र का एक अध्ययन (उत्त ४)।

चाउरत देखो चउरत (सम १, ठा ३, १,
हे १, ४४)।

चाउरत पु [चातुरन्त] १ चक्रवर्ती राजा。
तन्नाट (पएह १, ४) २ न. सगन-मएडप,
चीरी (स ७८)।

चाउरत न [चातुरन्त] भरत-क्षेत्र, भारतवर्ष
(वेद्य ३४०, ३४१)।

चाउरत न [चतुरन्त] चक्र, पहिया (वेद्य
३४४)।

चाउरक वि [चातुरक्य] चार चार परिणत।
'गोक्षीर न [गोक्षीर] चार बार परिणत
किया हुआ गो-दूध, जैसे कतिपय गौश्री का
दूध दूसरे गोश्री को पिलाया जाय, फिर
उनका अन्य गौश्री को, इस तरह चार बार
परिणत किया हुआ गो-दूध (जीव ३)।

चाउल वि [दे] चावल का, 'तहेव चाउल
पिट्ट' (वस ५, २, २२)।

चाउल पु [दे] चावल, तरहुल, (दे ३, ८,
आका २, १, ३, ६, ८, उप पृ २३१,
श्रीय ३४४, सुपा ६३६, रयण ६०, कष)।

चाउल्लग न [दे] पुष्प का पुतला—कृत्रिम
पुष्प (निबु १)।

चाउवण्ण देखो चाउवन्न (सम्मत्त १६२)।

चाउवन्न } वि [चातुर्वर्ण्य] १ चार वर्ण-
चाउवण्ण } वाला, चार प्रकार वाला। २
पुं साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का
समुदाय (ठा ५, २—पत्र ३२१), 'चाउव-
णएस्स समणसघत्त' (पउम २०, १२०)।
३ न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये
चार मनुष्य-जाति (भग १५)।

चाउव्विज्ज देखो चाउव्वेज (ती ७)।

चाउव्वेज न [चातुर्वैद्य] १ चार प्रकार
की विद्या—न्याय, व्याकरण, साहित्य और
धर्म-शास्त्र। २ पु चौबे, ब्राह्मणों का एक

श्राल-उपगौर या वर्ग, 'पउरचाउव्वेज्जलोएण'
(महा)।

चाउरसाला ली [चतुश्शाला] चारो तरफ
के कमराओं से युक्त घर (पव १३३ टी)।

चाएत देखो चाय = चय।

चाउंडा ली [चामुण्डा] स्वनाम-ख्यात देवी
(हे १, १७४)। °काउअ पु [°कासुक]
महादेव, शिव (कुमा)।

चाग देखो चाय = त्याग (पचव १)।

चागि देखो चाइ (उप पृ १०५)।

चाड वि [दे] मायावी, कपटी (दे ३, ८)।

चाडु पुन [चाडु] १ प्रियवाक्य। २ खुशामद
(हे १, ६७, प्राप्र)। °यार वि [°कार]
खुशामदी (पएह १, २)।

चाडुअ न [चाटुक] ऊपर देखो, कुमा)।

चाणक पु [चाणक्य] १ राजा चन्द्रगुप्त का
स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (मुद्रा १४८)। २ एक
मनुष्य-जाति (भवि)।

चाणकी ली [चाणक्यो] लिपि-विशेष (विसे
४६४ टी)।

चाणिक देखो चाणक (श्राक)।

चाणूर पु [चाणूर] मल्ल-विशेष, जिसको
श्रीकृष्ण ने मारा था (पएह १, ४, पिंग)।

चामर पुन [चामर] चंवर, बाल-व्यजन (हे
१, ६७)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। °गाहि
वि [°ग्राहिन्] चामर बीजनेवाला नौकर।

ली °गी (भवि)। °छायण न [°च्छायन्]
स्वाति नक्षत्र का गोत्र (इक)। °ङ्गय पु
[°ङ्गज] चामर-युक्त पताका (श्रीप)।

°धार वि [°धार] चामर बीजनेवाला (पउम
८०, ३८)।

चामरच्छ न [चामरच्छ] गोत्र विशेष (सुज्ज
१०, १६)।

चामरा ली उपर देखो (श्रीप, वसु, भग ६,
३३)।

चामीअर न [चामीअर] सुवर्ण, सोना
(पाम्, सुपा ७७, एया १, ४)।

चामुडराय पु [चामुण्डराज] गुजरात का
एक चौलुक्य वंश का राजा (कुप्र ४)।

चामु डा देखो चाउंडा (विसे, पि)।

चाय देखो चय = शक। वक्र चायत,
चायत (सूभ १, ३, १, वव १)।

चाय देखो चाव (सुपा ५३०, से १४, १५,
पिंग)।

चाय पु [द्याग] १ छोड़ना, परित्याग (श्रु
८, पचव १)। २ दान (सुर १, ६५)।

चायग } पु [चातक] पक्षि-विशेष, चातक
चायव } पक्षी (सए, पाम्, दे ६, ६०)।

चार सक [चारय्] चराना, खिलाना।
चारेइ (धर्मवि १४३)।

चार पुं [चार] १ गति, गमन, 'पामचारेल'
(महा, उप पृ १२३, रयण १५)। २ भ्रमण,
परिभ्रमण (स १६)। ३ चर-पुल्ल, वासुप
(विपा १, ३, महा, भवि)। ४ काराग, कैदखाना (भवि)। ५ सचार, सचरण
(श्रीप)। ६ अनुष्ठान, आचरण (प्राचादि
४५, महा)। ७ ज्योतिष-क्षेत्र, आकाश (ठ
२, २)।

चार पु [दे] १ वृक्ष-विशेष, पिपाल वृक्ष
चिरोजी का पेठ (दे ३, २१, श्रुणु, पएण
१६)। २ बन्धन स्थान (दे ३, २१)। ३
इच्छा, अभिलाष (दे ३, २१, भवि, सुपा
५११)। ४ न फल विशेष, सेवा विशेष
(पएण १६)। °वरुण पु [°क्रम] देने
वाले की इच्छानुसार दान देकर खरीदना
(सुपा ५११)।

चारण देखो चर = चर।

चारग दे [चारक] देखो चार (श्रीप, एया
१, १, पएह १, ३, उप ३५७ टी)। °पाल
पु [°पाल] जेलखाना का अध्यक्ष (विपा १,
६—पत्र ६५)। °पाला पु [°पालक]
कैदखाना का अध्यक्ष, जेलर (उप पृ ३३७)।

°भड न [°भाण्ड] कैदी को शिक्षा करने
का उपकरण (विपा १, ६)। °धिप पु
[°धिप] कैदखाना का अध्यक्ष, जेलर (उप
पृ ३३७)।

चारण पु [दे] अनिय-च्छेदक, पाकेटमार, चोर
विशेष (दे ३, ६)।

चारण पु [चारण] १ आकाश में गमन करने
की शक्ति रखनेवाले जैन मुनियों की एक
जाति (श्रीप, सुर ३, १५, मजि १६)। २
मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति करनेवाली जाति
भाट (उप ७६८ टी, प्रामा)। ३ एक जैन
मुनि-गण (ठा ६)।

वेच्छ (विसे ११२७) । कर्म घेप्पइ (हे ४, २५६) । क्वकू घेप्पत, घेप्पमाण (गा ५८१, भग, स १५२) । संकू. घेऊण, घक्कूण, घेक्कूण, घेत्तुआण, घेत्तुआण, घेत्तूण, घेत्तूण (नाट—मालती ७१, पि ५८४; हे ४, २१०, पि, उव, प्राप्र) । हेक्कू घेत्तु, घेत्तूण (हे ४, २१०, पउम, ११८, २४) । कू घेत्तव्व (हे ४, २१०, प्राप्र) ।

घेउर पुन [दे] घेवर, घृतपूर, मिश्राव-विशेष, 'सा भणइ नियोहेवि हु घयघेउरभोयण समा-कुणइ' (सुपा १३) ।

घेक्कूण देखो घे ।

घेत्तुमग वि [ग्रहीतुमनस्] ग्रहणकरणे की इच्छावाला (पउम १११, १६) ।

घेप्प }
घेप्पत } देखो घे ।
घेप्पमाण }

घेवर [दे] देखो घेउर (दि २, १०८) ।

घोटू } सक [पा] पीना, पान करना ।

घोट्टय } घोट्टइ (हे ४, १०) । वक्कू घोट्ट-यत (स २५७) । हेक्कू घोट्टिउ (कुमा) ।

घोड देखो घुम्म । घोडइ (से ५, १०) ।

घोड } पुळी [घोट, क] घोडा, अश्व,
घोडग } हय (दि २, १११, पत्र ५२,
घोडय } उवा, उप २०८) । २ पु कायो-

त्सगं का एक बोध (पव ५) । °रक्खग पु [°रक्कू] अश्वपाल, साईस (उप ५६७ टी) । °गीव [°गीव] अश्वगीव-नामक प्रतिवासुदेव, नृपविशेष (आवम) । °मुह न [°मुख] जैनेतर शास्त्र विशेष (अणु) ।

घोडिय पु [दे] मित्र, वयस्य (बृह ५) ।

घोडी ली [घोटी] १ घोडी । २ वृक्ष-विशेष, 'सीयल्लिघोडिवच्चूलकयरखइराइसकिरणे' (स २५६) ।

घोण न [घोण] घोडे की नाक (सण) ।

घोणस पु [घोनस] एक प्रकार का साँप (पउम ३६, १७) ।

घोणा ली [घोणा] १ नाक, नासिका (पाप्र) । २ घोडे की नाक । ३ सूअर का मुख-प्रदेश (से २, ६४, गउड) ।

घोर अक [घुर] निद्रा मे 'घुर-घुर' आवाज करना । घोरति (गा ८००) । वक्कू घोरत (स ४२४, उप १०३१ टी) ।

घोर वि [दे] १ नाशित, विनाशित । २ पु गीघ, पक्षि विशेष (दि २, ११२) ।

घोर वि [घोर] भयकर, भयानक, विकट (सूअ १, ५, १, सुपा ३४५, सु २, २४३, प्रासू १३६) । २ निर्दय, निष्ठुर (पाप्र) ।

घोरि पु [दे] शलम पशु की एक जाति (दि २, १११) ।

घोल देखो घुम्म । घोलइ (हे ४, ११७) ।

वक्कू. घोलत (कप्प, गा ३७१, कुमा) ।

घोल सक [घोलय्] १ घिसना, रगडना । २ मिलाना (विसे २०४४, से ४, ५२) ।

घोल न [दे] कपडे से छाना हुआ बही (पभा ३३) ।

घोलण न [घोलन] घर्षण, रगड (विसे २०४४) ।

घोलणा ली [घोलना] पत्थर वगैरह का पानी की रगड से गोलाकार होना (स ४७) ।

घोलवड } न [दे] एक प्रकार का खाद्य
घोलवडय } द्रव्य, दहीवडा (पभा ३३, आ २०, सुपा ४६५) ।

घोलाविअ वि [घोलिन] मिश्रित किया हुआ, मिलाया हुआ (स ४, ५२) ।

घोलिअ न [दे] १ शिलातल । २ हठ-कृत, बलात्कार (दि २, ११२) ।

घोलिअ वि [घूर्णित] घुमाया हुआ (पाप्र) ।

घोलिअ वि [घूर्णित] अत्यन्त लीन, 'अज-रक्खिओ जविणसु अईव घोलिओ' (सुल २, १३) ।

घोलिअ वि [घोलित] आम की तरह बोला हुआ (सूअ २, २, ६३) ।

घोलिअ वि [घोलित] रगडा हुआ, मर्दित (औप) ।

घोलि वि [घूर्णित] घूमनेवाला, चक्काकार फिरनेवाला (गा ३३८, स ५७८, गउड) ।

घोस सक [घोपय्] १ घोषणा करना, ऊँची आवाज से जाहिर करना । २ घोखना, ऊँची आवाज से अग्र्ययन करना, जोर-जोर से बोल कर पढना या रटना । घोसइ (हे १, २६०, प्रामा) । प्रयो घोसावेइ (भग) ।

घोस पुं [घोप] १ ऊँची आवाज (स १०७, कुमा, गा ५४) । २ आभीर-पल्ली, अहीरो का महल्ला, अहीर टोली (हे १, २६०) । ३ गोष्ठ, गौश्री का वाडा (ठा २, ४—पत्र ८६, पाप्र) । ४ स्तनितकुमार देवो की दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । ५ उदात्त आदि स्वर-विशेष (वव १०) । ६ अनुनाद (भग ६, १) । ७ न देव-विमान विशेष (सम १२, १७) । °सेण पु [°सेन] सातवें वासुदेव का पूर्वजन्म का धर्म-गुरु, एक जैन मुनि (पउम २०, १७६) ।

घोस न [घोप] लगातार ग्यारह दिनों का उपवास (सबोध ५८) ।

घोसण न [घोषण] १ ऊँची आवाज (निचू १) । २ घोषणा, डिठोरा पिटवाकर जाहिर करना (राय) ।

घोसणा ली [घोषणा] ऊपर देखो (साया १, १३, गा ५२४) ।

घोसय न [दे] दर्पण का घरा, दर्पण रखने का उपकरण-विशेष (अत) ।

घोसाडई ली [घोषातकी] लता-विशेष (पणण १७—पत्र ५३०) ।

घोसाडिया देखो घोसाडई (राय ३१) ।

घोसालई } ली [दे] शरद ऋतु मे होने-
घोसाली } वाली लता-विशेष (दि २, १११, पणण १—पत्र ३३) ।

घोसावण न [घोषण] घोषणा, डोंडी या डुग्गी पिटवा कर जाहिर करना (उप २११ टी) ।

घोसिअ वि [घोषित] जाहिर किया हुआ (उव) ।

चिआ ली [स्विप्] कान्ति, तेज, प्रभा (पङ्.)।

चिआ देखो चियगा (सुपा २४१, महा)।

चिइ ली [चिति] ? उपचय, पुष्टि, बुद्धि (पव २)। २ इकट्टा करना (उत्त ६)। ३ बुद्धि, मेधा (पात्र)। ४ भीत बगैरह बनाना। ५ चिता (पएह १, १—पत्र ८)। °कम्म न [°कर्मन्] वन्दन, प्रणाम-विशेष (आव ३)।

चिइ देखो चेइअ (उप ५६७, चैत्य १२, पंचा १)।

चिइगा देखो चियगा (ज १)।

चिइच्छ सक [चिन्तिस्] ? दवा करना, इलाज करना। २ शंका करना, सशय करना। चिइच्छइ (हे २, २१, ४, २४०)।

चिइच्छअ वि [चिन्तिस्सु] ? दवा करने-वाला, इलाज करनेवाला। २ पु. वैद्य (मा ३३)।

चिइय देखो चितिय, 'जेण एस मुचरियतवोवि मुचिइयजिण्णिववयणोवि' (महा)।

चिउर पु [चिङ्गुर] ? केश, बाल (गा १८८)। २ पीत रंग का गन्धद्रव्य-विशेष (पएण १७—पत्र ५२८, राय)।

चिच } सक [मण्डय्] विभूषित करना,
चिचअ } अलङ्कृत करना। चिचइ, चिचअइ - (हे ४, ११५, पङ्.)।

चिचइअ वि [मण्डित] शोभित, विभूषित, अलङ्कृत (पउम १५, १३, सुपा ८८, महा, पात्र, प्राण, कुमा)।

चिचइअ वि [दे] चलित, चला हुआ (दे ३, १३)।

चिचिणआ } ली [दे] देखो चिचिणी (कुमा,
चिचिणिया } सुपा १२, ५८३)।
चिचिणी }

चिचिणी ली [दे] चरट्टिका, अल पीसने की चक्की (दे ३, १०)।

चिचा ली [चिआ] ? तृण की बनाई हुई चटाई बगैरह। °पुरिस पु [°पुरुष] रुप का मनुष्य, जो पशु, पक्षी आदि को डराने के लिए बेतो में गाबा जाता है (सुपा १२४)।

चिचा ली [दे, चिआ] इमली का पेड़ (दे ३, १०, पात्र, विपा १, ६, सुपा १२४, ५८२, ५८३)।

चिचिअ वि [मण्डित] भूषित, अलङ्कृत (कुमा)।

चिचिणिआ } ली [दे] इमली का पेड़
चिचिणिचिचा } (शोध २६, दे ३, १०,
चिचिणी } सुपा ५८४, पात्र)।

चिचिइ मक [मण्डय्] विभूषित करना, अलङ्कृत करना। चिचित्तिइ (हे ४, ११५, पङ्.)।

चिचिइअ वि [मण्डित] विभूषित, अलङ्कृत, संवारा हुआ (पात्र, कुमा)।

चित सक [चिन्तय्] ? चिन्ता करना, विचार करना। २ याद करना। ३ ध्यान करना। ४ फीकर करना, अफसोस करना। चितेइ, चितेमि (उव, कुमा)। वक्क चितत, चित्तैत, चित्तित, चितयत, चितयमाण, चितेमाण (कुमा, उव, पउम १०, ४, अग्नि ५७, हे ४, ३२२, ३१०, सुर ४, २३)। कवक्क चित्तिज्जत (गा ६५१)। सक्क चित्तिउ, चित्तिऊण (महा, गा ३५८)। क्क चित-णीय, चितियक्य, चित्तेयव्य (उप ७३२, पचा २, पउम ३१, ७७, सुपा ४४५)।

चित वि [चिन्त्य] चिन्तनीय, विचारणीय, विचार-योग्य (उप ६८५)।

चितग वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला, विचारक (उप पृ ३३३, ३३६ टी)।

चितण न [चिन्तन] ? विचार, पर्यालोचन (महा)। २ स्मरण, स्मृति (उत्त ३२, महा)।

चितणा ली [चिन्तना] ऊपर देखो (उप ६८६ टी)।

चितणिआ ली [चिन्तिका] याद करना, चिन्तन करना (ठा ५, ३)।

चितय वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला (स ५६५, निर १, १)।

चितव देखो चित = चितय्। चितवइ (कुमा, भवि)।

चितविय वि [चिन्तित] जिसकी चिता की गई हो वह (भवि)।

चिता ली [चिन्ता] ? विचार, पर्यालोचन (पात्र, कुमा)। २ अफसोस, शोक, किन्तरी (सुर २, १६१, सूय २, १, प्रासु ६१)। ३ ध्यान (आव ४)। ४ स्मृति, स्मरण (एदि)। ५ इष्ट प्राप्ति का सदेह (कुमा)। °उर वि [°तुर] शोक से व्याकुल (सुर ६, ११६)। °दिट्ठ वि [ट्ट] विचार-भूषक देखा हुआ (पात्र)। °मइअ वि [°मय] चिन्ता-युक्त, 'सअणे चितामइअ काऊण पिअ' (गा १३३)। °मणि पु [°मणि] ? मनो वाञ्छित अर्थ को देनेवाला रत्न विशेष, दिव्य मणि (महा)। २ वीरशोक नगरी का एक राजा (पउम २०, १४२)। °वर वि [°वर] चिन्ता-मग्न (पउम १०, १३)।

चितायग) वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला
चितायग) (आवम)। ली °गा (सुपा २१)।

चितिय वि [चिन्तित] ? विचारित, पर्या लोचित (महा)। २ याद किया हुआ, स्मृत (एपाया १, १, पङ्.)। ३ जिसकी चिता उत्पन्न हुई हो वह (जीव ३, श्रौप)। ४ न स्मरण, स्मृति (अग ६, ३३, श्रौप)।

चितिर वि [चिन्तियत्] चिन्ताशील, चिन्ता करनेवाला (आ २७, सए)।

चिध न [चिह] ? चिह्न, लक्षण, निशानी (हे २, ५०, प्राण, एपाया १, १६)। २ ध्वजा, पताका (पात्र)। °पट्ट पु [°पट्ट] निशानी रूप वस्त्र-खण्ड (एपाया १, १)। °पुरिस पु [°पुरुष] ? दाढी-मूँछ बगैरह पुरुष की निशानी वाला मनुष्य, हिजडा। २ पुरुष का वेप धारण करनेवाली ली बगैरह (ठा ३, १)।

चिधाल वि [चिहवत्] चिह्नयुक्त, निशानी वाला (पउम १०६, ७)।

चिधाल वि [दे] ? रम्य, सुन्दर, मनोहर। २ मुख्य, प्रधान, प्रवर (दे ३, २२)।

चिधिय वि [चिह्वित] चिह्न-युक्त (पि २६७)।

चिफुल्लणी ली [दे] लो का पहनने का वस्त्र विशेष, लहंगा (दे ३, १३)।

चिकिच्छ देखो चिइच्छ। चिकिच्छामि (१ ४८५)। क्क चिकिच्छअव्व (अग्नि १६७)।

चिङ्गुर देखो चिउर (पि १०६)।

चोपया प्राणी, पशु (जी ३१) । २ न. ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण (विसे ३३५०) । °प्पह पु [°पथ] चौहट्टा, चौराहा, चौरास्ता (प्रयौ १००) । °प्पुड वि [°पुट] चार पुटवाला, चौसर, चौपड (विपा १, १) । °प्फाल वि [°फाल] देखो °प्पुड (णया १, १—पत्र ५३) । °व्वाहु वि [°वाहु] १ चार हाथवाला । २ पु. चतुर्भुज, श्रोत्रोष्ण (नाट) । °म्भुअ [°भुज] देखो °वाहु (नाट सूत्र १, ३ १) । °भग पुन [°भङ्ग] चार प्रकार, चार विभाग (ठा ४, १) । °भगी स्त्री [°भङ्गी] चार प्रकार, चार विभाग (भग) । °भाइया स्त्री [°भागिका] चौसठ पल का एक नाप (अणु) । °मट्टिया स्त्री [°मृत्तिका] कपडे के साथ कूटी हुई मिट्टी (निचू १८) । °मड-ल्ला न [°मण्डलक] लगन मण्डप, विवाह-मण्डप (सुपा ६३) । °मासिअ देखो चान्-म्मासिअ (श्रा ४७) । °मुह, °म्मुह पु [°मुख] १ ब्रह्मा, विधाता (पउम ११, ७२, २८, ४८) । २ वि चार मुँहवाला, चार द्वारवाला (श्रीप, सण) । °वग्ग पुन [°वर्ग] चार वस्तुओं का समुदाय (निचू १५) । °वण्ण, °वण्ण स्त्रीन [°पञ्चाशत] चौवन, पचास और चार, ५४ (पि २६५, २७३, सम ७२) । °वार वि [°द्वार] चार दखानेवाला (गृह) (कुमा) । °विह वि [°विध] चार प्रकार का (दे ३२, नव ३) । °वीस स्त्रीन [°विंशति] चौबीस, बीस और चार २४ (सम ४३, दे १, पि ३४) । °वीसइ (अप) । स्त्री [°विंशति] बीस और चार, चौबीस (पि ४४५) । °वीसइम वि [°विंशतितम] १ चौबीसवाँ (पउम २४, ४०) । २ न ग्यारह दिनों का लगातार उपवास (भग) । °वग्ग देखो °वग्ग (आचा २, २) । °व्वार पुंन [°वार] चार बार, चार दफा (हे १, १७१, कुमा) । °व्विह देखो °विह (ठा ४, २) । °व्वीस देखो °वीस (सम ४३) । °व्वीसइम देखो °वीसइम (णया १, १) । °सट्टि स्त्री [°पट्टि] चौसठ, साठ और चार (सम ७१, कप) । °सट्टिम वि [°पट्टितम] चौसठवाँ (पउम

६४, ४७) । °स्सट्टि देखो °सट्टि (कप्प) । °स्साल न [°शाल] चार शालाओं से युक्त घर (स्वप्न ५१) । °हट्ट, °हट्टय पुन [°हट्ट, °क] चौहट्टा, बाजार (महा, श्रा २७, सुपा ४५५) । °हत्तर वि [°सप्तत] चौहत्तरवाँ, ७४ वा (पउम ७४, ४३) । °हत्तरि स्त्री [°सप्तति] चौहत्तर, सत्तर और चार (पि २४५, २६४) । °हा अ [°धा] चार प्रकार से (ठा ३, १, जी १६) । देखो चो° ।

चउक न [चतुष्क] चौकड़ी चार वस्तुओं का समूह (सम ४०, सुर १४, ७८, सुपा १४), 'वण्णचउककेण' (श्रा २३) ।

चउक [दे चतुष्क] चौक, चौराहा, जहाँ चार रास्ता मिलता हो वह स्थान, चौमुहानी (दे ३, २, पड, णया १, १, श्रीप, कप्प, अणु, बृह १, जीव १, सुर १, ६३, भग) । २ आंगन, प्रागण (सुर ३, ७२) ।

चउक्कर पु [दे] कार्तिकेय, शिव का एक पुत्र (दे ३, ५) ।

चउक्कर वि [चतुष्कर] चार हाथवाला, चतुर्भुज (उत्त ८) ।

चउक्किआ स्त्री [दे. चतुष्किआ] आंगन, छोटा चौक (सुर ३, ७२) ।

चउज्जाइया स्त्री [दे] नाप-विशेष (भग ७, ८) ।

चउड पु [चोड] देश-विशेष (सम्मत्त ६०) ।

चउद देखो चउ-दस (सवोष २३) ।

चउदह वि [चतुर्देश] चौदहवा (प्राकृ ५) । स्त्री. °ही (प्राकृ ५) ।

चउपचम वि [चतुष्पञ्च] चार या पांच (सूत्र २, २, २१) ।

चउपाडिवय न [चतुष्प्रतिपत्] चार पडवा या परिवा तिथियाँ (पव १०४) ।

चउप्पाय प [चतुष्पाद] एक दिन का उपवास (सवोष ५८) ।

चउप्फल वि [चतुष्फल] चौगुना, 'महल-वाय चउप्फल्लोय' (सिरि १५७) ।

चउवोल स्त्रीन [चौवोल] छन्द-विशेष (पिग) । स्त्री °ला (पिग) ।

चउम्मुह पु [चतुर्मुख] दो दिन का उपवास, बेला (सवोष ५८) ।

चउर वि [चतुर] १ निपुण, दक्ष, होशियार

(पाम, वेणी ६६) । २ क्लिबि. निपुणता से होशियारी से, 'केत्ती गायइ चउर' (ठा ७) ।

चउरग वि [चतुरङ्ग] १ चार अंगवाला, चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) (सण) । २ न चार अंग, चार प्रकार (उत्त ३) ।

चउरगय न [चतुरङ्गक] एक तरह का जुआ (मोह ८६) ।

चउरगि वि [चतुरङ्गिन्] चार विभागवाला (सैन्य वगैरह) । स्त्री. °णी (सुपा ४५६) ।

चउरत वि [चतुरन्त] १ चार पर्यन्तवाला, चार सीमाएँवाला । २ पु ससार (श्रीप) । स्त्री °ता [°ता] षष्ठी, घरणी (ठा ४, १) ।

चउरत न [चतुरन्त] चक्र, पहिया (वेइय ३४३) ।

चउरस वि [चतुरस्स] चतुष्कोण, चार कोणवाला (भग. आत्ता, द १२) ।

चउरसा स्त्री [चतुरसा] छन्द विशेष (पिग) । चउरय पु [दे] चौरा, चवूतरा, गांव का सभा स्थान (सम १३८ टी) ।

चउरसस देखो चउरस (विसे २७६७) ।

चउरचिध पु [दे] सातवाहन, राजा शालि-वाहन (दे ३, ७) ।

चउराणण वि [चतुरानन] १ चार मुँहवाला । २ पु ब्रह्मा, विधाता (गउड) ।

चउरासी } स्त्री [चतुरशीति] संख्या-विशेष,
चउरासीइ } चौरासी, ८४ (जी ४५, सण,
उवा, पउम २०, १०३, सम ६०, कप्प) ।

चउरासीइम वि [चतुरशीतितम] चौरा-सीवाँ, ८४ वाँ (पउम ८४, १२, कप्प) ।

चउरासीय स्त्रीन [चतुरशीति] चौरासी, 'चउरासीय तु गणहरा तस्स उप्पन्ना' (पउम ४, ३५) ।

चउरिदिय वि [चतुरिन्द्रिय] त्वक्, जिह्वा, नाक और चक्षु इन चार इन्द्रियवाला (जन्तु) (भग ठा १, १, जी १८) ।

चउरिमा स्त्री [चतुरिम्मन्] चतुरस्ता, चतुराई, चालुप, निपुणता (सट्टि १६) ।

चउरिया } स्त्री [दे] लगन-मण्डप, मडवा,
चउरी } विवाह-मण्डप, गुजराती में 'चौरी'
(रंभा, सुपा ५५२) ।

चउरुत्तरसय वि [चतुरुत्तरशततम] एकसौ चारवाँ, १०४ वाँ (पउम १०४, ३५) ।

(अजि २७)। गंर पु [°कर] चित्रकार, चितेरा (सुर १, १०४, राया १, ८)।
 °गुत्ता ली [°गुत्ता] १ देवी विशेष, सोम-
 नामक लोकपाल की एक अन्न-महिषी (ठा ४,
 १)। २ दक्षिण रुक्क पर्वत पर बसनेवाली
 एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष (ठा ८)। °पक्ख
 पु [°पक्ख] १ वेणु देव नामक इन्द्र का एक
 लोकपाल, देव-विशेष (ठा ४, १)। २ सुद्र
 जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष (जीव
 १)। °फल, °फलग, °फल्य न [°फलक]
 तसवीरखाला तख्ता (महा, भग १५, पि
 ५१६)। °मिन्ति ली [°मिन्ति] १ चित्र-
 वाली भीत। २ ली की तसवीर (दस ८)।
 °यर देखो गंर (राया १, ८)। °रस पु
 [°रस] भोजन देनेवाली कलावृक्षी की एक
 जाति (सम १७, पउम १०२, १२२)।
 °लेहा ली [°लेहा] छन्द-विशेष (अजि
 १३)। °सभूइय न [°सभूतीय] चित्र
 और संभूत नामक चारडाल-विशेष के वृत्तान्त
 वाला 'उत्तराध्ययनसूत्र' का एक अध्ययन (उत्त
 १२)। °सभा ली [°सभा] तसवीरखाला
 गृह (राया १, ८)। °साला ली [°शाला]
 चित्र-गृह (हेका ३३२)।
 चित्तग पुं [°चित्तग] पुष्प देनेवाले कल्प-
 वृक्षों की एक जाति (सम १७)।
 चित्तग देखो चित्त = चित्र (उप पु ३०)।
 चित्तजाणुअ देखो चित्त-णु (प्राक १८)।
 चित्तठिअ वि [दे] परितोषित, खुश किया
 हुआ (दे ३, १२)।
 चित्तण न [°चित्तण] चित्र-कर्म (धर्मवि ३४)।
 चित्तदाउ पु [दे] मधु-पटल, मधपुडा (दे
 ३, १२)।
 चित्तपत्तय पु [°चित्तपत्रक] चतुरिन्द्रिय
 जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४६)।
 चित्तपरिच्छेय वि [दे] लघु, छोटा (भग,
 ७, ६)।
 चित्तय देखो चित्त = चित्र (पात्र)।
 चित्तयलया ली [°चित्तकलता] कली-विशेष
 (हम्मीर २८)।
 चित्तल वि [दे] १ मरिडत, विभूषित।
 २ रमणीय, सुन्दर (दे ३, ४)।
 चित्तल वि [°चित्तल] १ चितला, कबरा,

चितकबरा (पात्र)। २ पु जगली पशु-विशेष,
 हरिण के आकारवाला द्विखुरा पशु-विशेष
 (जीव १, परह १, १)।
 चित्तलि पुंली [°चित्तलिन्] सांप की एक
 जाति (परण १)।
 चित्तलिअ वि [°चित्तलिअ, चित्रित] चित्र-
 युक्त किया हुआ, 'पढम विअ दिअहद्धे कुड्डो
 रेहाहि चित्तलिअो' (गा २०८)।
 चित्तविअअ वि [दे] परितोषित (पड)।
 चित्तवीणा ली [°चित्तवीणा] वाद्य विशेष
 (राय ४६)।
 चित्ता ली [°चित्ता] १ नक्षत्र-विशेष (सम २)।
 २ देवी-विशेष, एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा
 ४, १)। ३ शत्रेन्द्र के एक लोकपाल की
 ली, देवी-विशेष (ठा ४, १—पत्र २०४)।
 ४ औपधि-विशेष (सुर १०, २२३, परण १७)।
 चित्ताचिह्लडय } पु [दे] जगली पशु-विशेष
 चित्ताचेह्लरय } (आचा २, १, ५, ३, ४)।
 चित्तावडी ली [°चित्तपटी] वस्त्र-विशेष, छोट
 (दूटीदार) आदि कपडा, 'उवविह्वा चित्ता-
 वडिमसूरयम्मि विअमवई कमलया य' (स
 ७३८)।
 चित्ति पु [°चित्तिन्] चित्रकार, चितेरा (कम्म
 १, २३)।
 चित्तिअ वि [°चित्तिअ] चित्र-युक्त किया
 हुआ (औप, कप्प, उप ३६१ टी, दे १, ७५)।
 चित्तिया ली [°चित्तिआ] ली-जीता, धापद-
 विशेष की मादा (परण ११)।
 चित्ती देखो चैत्ती (सुज १०, ७)।
 चित्ती ली [°चैत्ती] चैत्र मास की पूर्णिमा
 (इक)।
 चिह्विअ } वि [दे] निर्णाशित, विनाशित
 चिहाविअ } (दे ३, १३, पात्र, भवि)।
 चिन्न देखो चिण्ण (सुपा ४, सण, भवि)।
 चिप्प सक [दे] १ कूटना। २ दबाना। कर्म,
 'वि (? चि)-प्पिअसि ज तस्सि केणवि गोमह-
 वसहेण' (दे २, ६६ टी)। सज्ज. चिप्पित्ता
 (इह २)।
 चिप्पग पुन [दे] कूटी हुई छाल, गुजराती में
 'चैपो' (कस २, ३० टि)।
 चिप्पड देखो चिविड (धर्मवि २७)।
 चिप्पय देखो चिप्पग (कस २, ३० टि)।

चिप्पिअ पु [दे] नपुंसक विशेष, जन्म के
 समय में झूठे से मर्दन कर जिसका प्रवृत्त
 दबा दिया गया हो वह (पच १०६ टी)।
 चिप्पिअय पु [दे] अन्न-विशेष (दसा ६)।
 चिपुअ न [°चिपुअ] होठ के नीचे का अन्न
 यव, ठोढी (कुमा)।
 चिचभड न [°चिभिड] खीरा, ककडी, फल-
 विशेष, गुजराती में 'चीमडु' (दे ६, १४७)।
 चिचभडिया ली [°चिभिडिका] १ कली-
 विशेष, ककडी का गाछ। २ मत्स्य की एक
 जाति (जीव १)।
 चिचिभड देखो चिचभड (सुपा ६३०, पात्र)।
 चिचिड्ड } वि [°चिपिट] चिपटा, नैठा हुआ,
 चिचिड्ड } दबा हुआ (नाक) (राया १, ८,
 पि २०७, २४८)।
 चिचिण वि [दे] रोमश, रोमाञ्चित, पुलकित,
 गदगद (दे ३, ११, पड)।
 चिय देखो चेइअ = चैत्य, 'सो अन्नया क्काह
 चियपरिवाडि कुणतमो नये' (सम्मत् १५६)।
 चियका } ली [°चित्ता] युद्ध को झूँकने के
 चियगा } लिए चुनी हुई लकड़ियों का ढेर
 (परह १, ३—पत्र ४५, सुपा ६५७, स
 ४१६)।
 चियत्त देखो चत्त (भग २, ५, १०, २,
 कप्प, निचू १)।
 चियत्त वि [दे] १ अभिमत, सम्मत (ठा ३,
 ३)। २ प्रीतिकर, राग जनक (औप)। ३
 प्रीति, रुचि। ४ अप्रीति का अभाव (ठा ३,
 ३—पत्र १४७)।
 चियया देखो चियगा (पउम ६२, २३)।
 चियाग } देखो चाय = त्याग (ठा ५, १,
 चियाय } सम १६)।
 चिर न [°चिर] १ दीर्घ काल, बहुत काल
 (स्वप्न ८३, गा १४७)। २ विम्वन, देव
 (गा ३४)। ३ वि दीर्घ काल तक रहनेवाला
 'हियहचिह्यपियलमा चिरासया कस्स जायति
 (वजा ५२)। °आरअ वि [°कारक
 विलम्ब करनेवाला (गा ३४)। °जीवि।
 [°जीविन्] दीर्घ काल तक जीनेवाला (५६७)। °जीविअ वि [°जीवित] दी
 काल तक जीया हुआ, वृद्ध (वाय २, ३४,
 °ट्टिइ, °ट्टिइय, °ट्टिइय वि [°स्थिति

चडण देखो चदण, 'चडण, चडणो' (प्राकृ १६)।

चडमा पु [चन्द्रमस्] चन्द्रमा, चाद (पिंग)।
चडा लो [चण्डा] १ चमरादि इन्द्रो की मय्यम परिषद (ठा ३, २, भग ४, १)। २ भगवान् वासुपुत्र्य की शासनदेवी (सति १०)।
चडातक न [चण्डातक] लो का पहनने का वस्त्र, चोली, लहंगा (दे ३, १३)।
चडार पु न [दे] भण्डार, भाण्डागार (कुमा)।
चडाल पु [चण्डाल] १ वर्यांसकर जाति-विशेष, शूद्र और ब्राह्मणी से उत्पन्न (आचा, सूत्र १, ८)। २ डोम (उत् १, अणु)।
चडालिय वि [चाण्डालिक] चण्डाल-सवन्धी, चण्डाल जाति मे उत्पन्न (उत् १)।
चडाली लो [चण्डाली] १ चण्डाल-जातीय लो। २ विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)।
चडिअ वि [दे] कृत, खिल, काटा हुआ (दि ३, ३)।
चडिक पु न [दे चाण्डिक्य] रोप, गुस्सा, क्रोध, रोद्रता (दि ३, २, षड, सम ७१)।
चडिकिअ वि [दे चाण्डिक्यत] १ रोष-युक्त, रौद्राकारवाला, भयकर (गाया १, १, परह २, २, भग ७, ८, उवा)।
चडिज पु [दे] कोप, क्रोध, गुस्सा। २ वि मिथुन, खल, दुर्जन (दि ३, २०)।
चडिम पु लो [चण्डिमन्] चण्डता, प्रचण्डता (सुपा ६६)।
चडिया लो [चण्डिका] देखो चडी (स २६२, नाट)।
चडिल वि [दे] मोन, पुष्ट (दि ३, ३)।
चडिल पु [चण्डिल] हजाम, नापित (दि ३, २, पात्र, गा २६१ अ)।
चडी लो [चण्डी] १ क्रोध-युक्त लो, कर्काश और उग्र लो (गा ६०८)। २ पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी (पात्र)। ३ वनस्पति-विशेष (परण १)। ४ देवग वि [देवक] चण्डी का भक्त (सूत्रनि ६०)।
चद पु [चन्द्र] १ चन्द्र, चन्द्रमा, चाद (ठा २, ३, प्रासु १३, ५५, पात्र)। २ नृप-विशेष (उप ७२८ टी)। ३ रामचन्द्र, दाशरथी राम (सि १, ३४)। ४ राम के एक सुभट का नाम (पउम ५६, ३८)। ५ रावण का एक सुभट

(पउम ५६, २)। ६ राशि-विशेष (भवि)।
७ आह्लादक वस्तु। ८ कपूर। ९ स्वर्ण, सोता। १० पानी, जल (हे २, १६४)।
११ एक जैन आचार्य (गच्छ ४)। १२ एक द्वीप का नाम, द्वीप-विशेष (जीव ३)। १३ राधाविष की पुतली का बर्याय नयन, आँख का गोला (एदि)। १४ न देवविमान-विशेष (सम ८)। १५ रुचक पर्वत का एक शिखर (दीव)। १६ अ न देखो कत (विक्र १३६)।
उत्त देखो गुत्त (मुद्रा १६८)। कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (स ३६०)। २ न देवविमान-विशेष (सम ८)। ३ वि चन्द्र की तरह आह्लादक (आवम)। कता लो [कान्ता] १ नगरी विशेष (उप ६७३)। २ एक कुलकर-पुरुष की पत्नी (सम १५०)।
कूड न [कूट] १ देवविमान विशेष (सम ८)। २ रुचक पर्वत का एक शिखर (ठा ८)।
गुत्त पु [गुप्त] मौयंयश का एक स्वनाम-विख्यात राजा (विसे ८६२)। चार पु [चार] चन्द्र की गति (चद १०)। चूड, चूड पुं [चूड] विद्याधर वश का एक स्वनाम प्रसिद्ध राजा (पउम ५, ४५, दस)।
च्छाय पु [च्छाय] अग देश का एक राजा, जिसने भगवान् मल्लिनाथ के साथ दीक्षा ली थी (गाया १, ८)। जसा लो [यज्ञास्] एक कुलकर पुरुष की पत्नी (सम १५०)।
जम्य न [जम्य] देवविमान विशेष (सम ८)। णक्खा लो [नखा] रावण की वहिन का नाम (पउम १०, १८)। णह पु [नख] रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३१)। णही देखो णक्खा (पउम ७, ६८)।
णागरी लो [नागरी] जैन मुनि-नगण की एक शाखा (कण्प)। दरिसणिया लो [दर्शनिका] उत्सव-विशेष, बच्चे के पहली बार के चन्द्र-दर्शन के उपलक्ष्य मे किया जाता उत्सव (राज)। दिण न [दिन] प्रति-पदादि तिथि (पच ५)। दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष (जीव ३)। ड न [ड] आधा चन्द्र, अष्टमी तिथि का चन्द्र (जीव ३)।
पडिमा लो [प्रतिमा] तप-विशेष (ठा २, ३)। पन्नत्ति लो [प्रज्ञप्ति] एक जैन उपाङ्ग ग्रन्थ (ठा २, १—पत्र १२६)।

पञ्चय पु [पर्वत] वनस्कार पर्वत-विशेष (ठा २, ३)। पुर न [पुर] वृताढ्य पर्वत पर स्थित एक विद्याधर-नगर (इरु)। पुरी लो [पुरी] नगरी-विशेष, भगवान् चन्द्रप्रभ की जन्म-भूमि (पउम २०, ३४)। प्पभ वि [प्रभ] १ चन्द्र के तुल्य कान्तिवाला। २ पु आठवें जिनदेव का नाम (धर्म २)। ३ चन्द्रकान्त, मणि-विशेष (परण १)। ४ एक जैन मुनि (दस)। ५ न देवविमान-विशेष (सम ८)। ६ चन्द्र का सिंहासन (गाया २, १)। प्पभा लो [प्रभा] १ चन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १)। २ मदिरा-विशेष, एक जात का दारु (जीव ३)। ३ इ नाम की एक राज-कन्या (उप १०३१ टी)। ४ इस नाम की एक शिविका, जिममे वैठरु भगवान् शीतलनाथ और महावीर-न्वामी दीक्षा के लिए बाहर निकले थे (आवम)।
प्पह देखो प्पभ (कण्प, सम ४३)। भागा लो [भागा] एक नदी (ठा ५, ३)।
मडल पु न [मण्डल] १ चन्द्र का मण्डल, चन्द्र का विमान (ज ७, भग)। २ चन्द्र का विम्ब (परह १, ४)। मग्ग पु [मार्ग] १ चन्द्र का मण्डल-गति से परिभ्रमण। २ चन्द्र का मण्डल (सुज ११)। मणि पु [मणि] चन्द्रकान्त, मणि-विशेष (विक्र १२६)।
माला लो [माला] १ चन्द्राकार हार, चन्द्र-हार। २ छन्द-विशेष (पिंग)। मालिया लो [मालिका] वही पूर्वोक्त अर्थ (औप)।
मुही लो [मुखी] १ चन्द्र के समान आह्लादक मुखवाली लो। २ सीता-पुत्र कुश की पत्नी (पउम १०६, १२)। रह पु [रथ] विद्याधर वश का एक राजा (पउम ५, १५, ४४)। रिसि पु [रथि] एक जैन ग्रन्थकार मुनि (पच ५)। लस न [लेदय] देवविमान-विशेष (सम ८)। लेहा लो [लेखा] १ चन्द्र की रेखा, चन्द्रकला। २ एक राज-पत्नी (ती १०)। वडिसग न [वतसक] १ चन्द्र के विमान का नाम (चद १८)। २ देखो चडवडिसग (उत् १३)। वण्ण न [वर्ण] एक देवविमान (सम ८)। वयण वि [वदन] १ चन्द्र के तुल्य आह्लादजनक मुँहवाला। २ पुं.

चिहुर पुं [चिहुर] केश, बाल (पात्र, सुपा २८१)।

ची } देखो चेइअ (हे १, १५१, सार्ध
चीअ } ५७, ६३)।

चीअ न [चित्ता] मुद्धे को फूँकने के लिए
चुनी हुई लकड़ियों का ढेर, 'चीए वधुस्स व
आट्टिआइ रुअई समुच्चिएह' (गा १०४)।

चीइ देखो चेइअ (सुर ३, ७५)।

चीइ वि [दे] कावा काच की मणियाला
(सिरि ६८०)।

चीण वि [चीन] १ छोटा, लघु, 'चीणचिमि-
ढवकमण्णयास' (एयाया १, ८—पत्र १३३)।

२ पु म्लेच्छ देश विशेष, चीन देश (पएह
१, १, स ४४३)। ३ चीन देश का निवासी,
चीनी या चीना (पएह १, १)। ४ धान्य-विशेष,
श्रीहि का भेद (सएण), 'चीणकूरं छलिया-
तवकेण दित्तं' (महा)। ५ पट्ट पु [पट्ट]

चीन देश में होनेवाला वस्त्र-विशेष (पएह १,
४)। ६ पिट्ट न [पिट्ट] मिट्टर-विशेष (राय,
पएण १७)।

चीणसु } पु [चीनासु, क] १ कीट-विशेष,
चीणसुय } जिसके तन्तुओं से वस्त्र बनता है
(इह १)। २ चीन देश का वस्त्र-विशेष,
चीणसुसमूसियवविराइय' (सुपा ३४, धराण,
ज २)।

चीया ली देखो चीअ = चिता, 'चीयाए
पक्खिउ तत्तो उदीविओ जलणो' (सुर ६,
८८)।

चीर न [चीर] वस्त्र खण्ड, कपड़े का टुकड़ा
(शोध ६३ भा. आ १२, सुपा ३६१)। 'कहूस-
गपट्ट पु [अण्डूसकपट्ट] जैन साधुओं का
एक उपकरण, रजोहरण का बन्धन-विशेष
(निच ५)।

चीरग पु [चीरक] नीचे देखो (गच्छ २)।

चीरिय पु [चीरिक्] १ रास्ता में पेड़े हुए
चीयडों को पहननेवाला मिट्टक। २ फटा-टूटा
कपड़ा पहननेवाली एक साधु जाति (एयाया
१, १५—पत्र १६३)।

चीरिया ली [चीरिका] नीचे देखो (सुर ८,
१८८)।

चीरी ली [चीरी] १ वस्त्र खण्ड, वस्त्र का
टुकड़ा, 'तो तेण निययवत्थचलाउ चीरीउ

करेअण' (सुपा ५८४)। २ क्षुद्र कीट-विशेष,
भीगुर (कुमा, दे १, २६)।

चीवट्टी ली [दे] मल्ली, भाला, शस्त्र-विशेष
(दे ३, १४)।

चीवर न [चीवर] वस्त्र, सन्यासियों या भिक्षुओं
के पहनने का कपड़ा (सुर ८, १८८, ठा
५, २)।

चीहाडी ली [दे] चीत्कार, चिल्लाहट, पुकार,
हाथी की गर्जना या चिघाडना (सुर १०,
१८२)।

चीही ली [दे] मुस्ता का वृण-विशेष (दे ३,
१४, २२)।

चु अक [च्यु] १ मरना, जन्मान्तर में जाना।
२ गिरना। भवि चइस्सामि (कप्प)। सक्क
चइअण, चइत्ता, चइअ (उत्त ६, ठा
८, भग)। ३ चइअज्व (ठा ३, ३)।

चुअ अक [च्युत्] भरना, टपकना।
धुअइ (हे २, ७७)।

चुअ सक [त्यज्] त्याग करना, परिहार
करना, 'एयमट्ट मिगे उए' (सुअ १, १, २,
१२)।

चुअ वि [च्युत] १ च्युत, मृत, एक जन्म
से दूसरे जन्म में अवतीर्ण (भग, महा, ठा
३, १)। २ वितण, 'उअकलिकसुस' (भजि
१८)। ३ अट्ट, पतित (एयाया १, ३)।

चुइ ली [च्युति] ध्ववन, मरण (राज)।

चुवारपुर न [चुक्कारपुर] एक नगर (सम्मत्त
१४५)।

चुअ पु [दे] शोकर, श्रवतस, मस्तक का
भूषण (दे ३, २६)।

चुअ पु [चुअचुअ] १ म्लेच्छ देश-विशेष।
२ उस देश में रहनेवाली मनुष्य जाति
(इक)।

चुअ पु [चुअचुअ] इन्ध (धनी) जाति-
विशेष, एक वैश्य-जाति (ठा ६—पत्र ३५८)।

चुअणिअ वि [दे] १ चलित, गत। २
च्युत, गट्ट (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चुअणिया ली [दे] गौरी की प्रतिव्वलि।
२ रमण, रति, समोण। ३ इमली का पेड़।
४ द्युत-विशेष, दुष्टि-धूत। ५ युका, खटमल,
क्षुद्र कीट-विशेष (दे ३, २३)।

चदिल पुं [चन्दिल] नापित, हजाम (गा २६१, दे ३, २) ।

चंदुत्तरवडिसग न [चन्द्रोत्तरावतसक] एक देवविमान (सम ८) ।

चदोरी स्त्री [दे] नगरी-विशेष (ती ४५) ।

चदोज्ज } न [दे] कुमुद, चन्द्र-विकासी
चदोज्ज } कमल (दे ३, ४) ।

चदोत्तरण न [चन्द्रोत्तरण] कौशाम्बी नगरी का एक उद्यान (विपा १, ५—पत्र ६०) ।

चदोयर पु [चन्द्रोदर] एक राज-कुमार (धम्म) ।

चदोवग न [चन्द्रोपक] सन्यासी का एक उपकरण (ठा ४, २) ।

चदोवराग पुं [चन्द्रोपराग] चन्द्र-ग्रहण, चन्द्रमा का ग्रहण, राहु-ग्रस (ठा १०, भाग ३, ६) ।

चद्र देखो चद्र (हे २, ८०, कुमा) ।

चप सक [दे] चाँपना, दाबना, दवाना । चंपइ (आरा २५) । कर्म चपिजइ (हे ४, ३६५) ।

चप सक [चर्च] चर्चा करना । चपइ (प्राप्त) । सक चपिऊण (वजा ६४) ।

चप सक [आ + रुह] चढना । चपइ (प्राप्त ७३) ।

चप देखो चपय (राय ३०) ।

चपाग पुंन [चम्पक] एक देवविमान (देवेन्द्र १४२) ।

चपाग देखो चपय, 'असुइडुआणे पडिया, चंपग-माला न कीरइ सीते' (आव ३) ।

चपडण न [दे] प्रहार, आघात, 'सरभसचल-तविअडुडिअगधसिधुरणिवहचलणचपडणस-मुपइआ धूलोजालोली' (विक्र ८४) ।

चपण न [दे] चाँपना, दवाना (उप १३७ टी) ।

चंपय पु [चंपक] १ वृक्ष-विशेष, चम्पा का पेड़ (स १५२, भाग) । २ देव-विशेष (जीव ३) । ३ न चम्पा का फूल (कुमा) । ४ माला स्त्री [माला] १ छन्द-विशेष (पिंग) । २ चम्पा के फूलों का हार (आव ३) । ३ लया स्त्री [लया] १ लताकार चम्पक वृक्ष । २ चम्पक वृक्ष की शाखा (ज १, औप) । ३ वण

न [वन] चम्पक वृक्षों की प्रधानतावाला वन (भाग) ।

चंपयवडिसग पु [चम्पमावतसक] सौधमं देवलोक में स्थित एक विमान (राय ५६) ।

चपा स्त्री [चम्पा] अंग देश की राजधानी, नगरी-विशेष, जिसको आजकल 'भागलपुर' कहते हैं (विपा १, १, कप्य) पुरी स्त्री [पुरी] वही अर्थ (पउम ८, १५६) ।

चपा स्त्री देखो चपय । कुसुम न [कुसुम] चम्पा का फूल (राय) । ३ वण वि [वर्ण] चम्पा के फूल के तुल्य रगवाला, सुवर्ण-वर्ण । स्त्री ३ णी (अप) (हे ४, ३३०) ।

चपारण (अप) पु [चम्पारण्य] १ देश-विशेष, चपारन, तिरहुत कमिश्नरी (विहार) का एक जिला । २ चपारन का निवासी (पिंग) ।

चपिअ वि [दे] चाँपा हुआ, दवाया हुआ, मदित (सुपा १३७, १३८) ।

चपिअ न [दे] आक्रमण, दबाव (तदु ४४) ।

चपिजिया स्त्री [चम्पीया] जैन मुनिगण की एक शाखा (कप्य) ।

चंभ पु [दे] हल से विदारित भूमि-रेखा (दे ३, १) ।

चकप्पा स्त्री [दे] त्वक्, त्वचा, चमड़ी (दे ३, ३) ।

चकिद देखो चइद (कुमा) ।

चकोर पु स्त्री [चकोर] पक्षि-विशेष, चकोर पक्षी (सुपा ४५७) । स्त्री ३ री (राय ४६) ।

चक्र पुं [चक्र] १ पक्षि-विशेष, चक्रवाक पक्षि (पाम्र, कुमा, सण), 'तो हरिसपुलइयगो चको इव दिडुलगयपयगो' (उप ७२८ टी) ।

२ न गाड़ी का पहिया (परह १, १) । ३ समूह (सुपा १५०, कुमा) । ४ अस्त्र-विशेष (पउम ७२, ३१, कुमा) । ५ चक्राकार आभूषण, मस्तक का आभरण-विशेष (औप) ।

६ व्यूह-विशेष, सैन्य की चक्राकार रचना-विशेष (राया १, १, औप) । ७ कत पुं [कान्त] देव-विशेष, स्वयंभूरमण समुद्र का अधिष्ठाता देव (दीव) । ८ जोहि पुं [योधिन्] १ चक्र से लडनेवाला योद्धा (ठा ६) । २ वासुदेव, तीन खड प्रथिवी का राजा (आव १) । ३ मय पु [ध्वज] चक्र के निशान-वाली ध्वजा (ज १) । ४ पडु पुं [प्रभु]

चक्रवर्ती राजा (सण) । पाणि पु [पाणि] १ चक्रवर्ती राजा, सम्राट् । २ वासुदेव, अर्ध-चक्रवर्ती राजा (पउम ७३, ३) । पुरा, पुरी स्त्री [पुरी] विदेह वपु की एक नगरी (ठा २, ३, इक) । पपहु देखो पहु (सण) ।

यर पु [चर] भिसुक, भीखमगा (उप ६१७) । रयण न [रत्न] अस्त्र-विशेष, चक्रवर्ती राजा का मुख्य आभूषण (परह १, ४) ।

वइ पु [पति] सम्राट् (पिंग) । वइ, वट्टि पु [वर्तिन्] छ खण्ड भूमि का अधिपति राजा, सम्राट् (पिंग, सण, ठा ३, १, पडि, प्रासू १७५) । वट्टित्त न [वर्तित्व] सम्राट्पन, साम्राज्य (सुर ४, ६१) । वत्ति देखो वट्टि (पि २८६) ।

विजय पुं [विजय] चक्रवर्ती राजा से जीतने योग्य क्षेत्र विशेष (ठा ८) । साला स्त्री [शाला] वह मकान, जहाँ तिल पैरा जाता हो, तेलिक गृह (वव १०) । सुह पुं [शुभ, सुख] देव-विशेष, मानुषोत्तर पर्वत का अधिपति देव (दीव) । सेण पु [सेन] स्वनाम-रयात एक राजा (दंस) । हर पु [धर] १ चक्रवर्ती राजा, सम्राट् (सम १२६, पउम २, ८५, ४, ३६, कप्य) । २ वासुदेव, अर्ध-चक्रो राजा (राज) ।

चक्र न [चक्र] एक देवविमान (देवेन्द्र १३३) । चक्रआअ देखो चक्रवाय (पि ८२) । चक्रग पु [चक्राङ्ग] पक्षि-विशेष (सुपा ३४) । चक्रणभय न [दे] नारगी का फल (दे ३, ७) । चक्रणाहय न [दे] ऊर्मि, तरङ्ग, कल्लोल (दे ३, ६) । चक्रम } अक [अम्] धूमना, भटकना, चक्रम्म } अमण करना । चक्रमइ (दे २, ६) । चक्रम्मइ (हे ४, १६१) । वट्ट-चक्रमत (स ६१०) । चक्रम्मविअ वि [अमित] धुमाया हुआ, फिराया हुआ (कुमा) । चक्रय देखो चक्र (परण १) । चकल न [दे] कुण्डल, कर्ण का आभूषण । २ दोलाफलक, हिंडोला का पटिया (दे ३, २०) । ३ वि वत्तुंन, गोलकार पदार्थ (दे

[^०पितृ] चाचा, पिता का छोटा भाई (विपा १, ३) । ^०माडया व्री [^०मात्] ? छोटी माँ, माता की छोटी सपत्नी, विमाता, सौतेली माँ (उप २६४ टी, गाय्या १, १, विपा १, ३) । २ चाची, पिता के छोटे भाई की व्री (विपा १, ३—पत्र ४०) । ^०सगय, ^०सयय पु. [^०शतऋ] भगवान् महावीर के दश मुख्य उपासको मे से एक (उवा) । ^०हिमवत पु [हिमवन्] छोटा हिमवान् पर्वत, पर्वत-विशेष (ठा २, ३, सम १२, इक) । ^०हिमवतकूड न [^०हिमवत्कूट] ? सुदूर हिमवान्-पर्वत का शिखर-विशेष । २ पु उसका अधिपति देव-विशेष (ज ४) । ^०हिमवत-गिरिकुमार पु [^०हिमवद्गिरिकुमार] देव विशेष, जो सुदूर हिमवत्कूट का अधिष्ठायक है (जं ४) ।

चुल्लग न [दे] संदूक (कुप्र २२७, २२८) । चुल्लग [दे] देखो चोल्लक (आक) ।

चुल्लि } व्री [चुल्लि, ह्ली] चूल्हा, जिसमे चुल्लो } आग रखकर रसोई की जाती है वह (दे १ ८७, सुर २, १०३) ।

चुल्लो व्री [दे] शिला, पापाण-खण्ड (दे ३, १५) ।

चुल्लुन्डल्ल अक [दे] छलकना, उखलना, 'चुल्लुच्छलेइ ज होइ ऊणय, रिक्तय कणकणेइ । भरियाइ ए खुम्भती सुपुरिसविन्नाणमडाई ।' (सूप्रनि ६६ टी) ।

चुल्लोडय पु [दे] बडा भाई (दे ३, १७) । चूअ पु [दे] स्तन-शिक्षा, धन का अग्र भाग, चूची (दे ३, १८) ।

चूअ पु [चून] ? वृक्ष-विशेष, आम्र, आम का गाछ (गउड, भग, सुर ३, ४८) । २ देव-विशेष (जीव ३) । ^०वडिसग न [^०वत-सऋ] सौधर्म विमान-विशेष (राय) । ^०वडिसा व्री [^०वतसा] शक्रेन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी-विशेष (इक, जीव ३) ।

चूआ व्री [चूता] शक्रेन्द्र की एक अग्र-महिषी, इन्द्राणी-विशेष (इक, ठा ४, २) । चूचुअ पुन [चूचुक] स्तन का अग्र-भाग (प्राक ११) ।

चूड पु [दे] चूडा, बाहु-भूषण, बलयावली (दे ३, १८, ७, ५२, ५६, पाप्र) ।

चूडा देखो चून्ध (सुर २, २४२, गउड, गाय्या १, १, सुपा १०४) ।

चूडुल्लअ (अप) देखो चूड (हे ४, ३६५) ।

चूर सक [चूरय्, चूर्णय्] खण्ड करना, तोडना, टुकडा-टुकडा करना । चूरमि (धम्म ६ टी) । भवि चूरइस्स (पि ५२८) । वक्क चूरत (सुपा २६१, ५६०) ।

चूर (अप) पुन [चूर्ण] चूर, भुरभुर, 'जिह गिरासिगह्णु पडिअ सिल, अन्नुवि चूर करेइ' (हे ४, ३३७) ।

चूरण देखो चुन्नण (कुप्र २७३) ।

चूरिअ वि [चूर्ण, चूर्णित] चूर-चूर किया हुआ, टुकडा-टुकडा किया हुआ (भवि) ।

चूरिम पुन [दे] मिठाई विशेष, चूर्मा लड्डू (पव ४ टी) ।

चूळ^० देखो चूला । ^०मणि न [^०मणि] विद्याधरो का एक नगर (इक) ।

चूळअ [दे] देखो चूड (नाट) ।

चूला व्री [चूडा] ? चोटी, सिर के बीच की केश-शिक्षा (पाप्र) । २ शिखर, टोच, 'अवि चलइ मेरुचूला' (उप ७२८ टी) । ३ मयूर-शिक्षा । ४ कुक्कुट शिक्षा । ५ शेर की केसरा । ६ कुत वगैरह का अग्र भाग । ७ विभूषण, अलंकार, 'तिविहा य दव्वचूला, सच्चिता मोमगा य अच्चिता । कुक्कुड सीह मोरसिहा, चूलामणि अगकुतादी । चूला विभूसणति य, सिहरति य होति एण्ढा' (निचू १) ।

८ अधिक मास । ९ अधिक वर्ष । १० अन्त्य का परिशिष्ट (दसचू १) । ^०ऊम्म न [^०ऊम्मन्] सस्कार-विशेष, मुण्डन (आवम) । ^०मणि पुव्वी [^०मणि] ? सिर का सर्वोत्तम आभूषण विशेष, मुकुट-रत्न, शिरो मणि (श्रौप, राय) । २ सर्वोत्तम, सर्व-श्रेष्ठ, 'तिलायचूला-मणि नमो ते' (वण १) ।

चूलिय पु [चूलिक] ? अनार्य देश-विशेष । २ उस देश का निवासी (परह १, १) । ३ व्रीन सख्या विशेष, चूलिकाग को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक, ठा २, ४) । व्री ^०या (राज) ।

चूलियंग न [चूलिकाङ्ग] सख्या-विशेष,

प्रयुक्त को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४, जीव ३) । चूलिया देखो चूला (सम ६६, सुर ३, १२, एदि, निचू १, ठा ४, ४) ।

चूव (अप) देखो चूअ (भवि) ।

चूह सक [क्षिप्] फेंकना, डालना, प्रेरण । चूहइ (पड) ।

चे अ [चेत्] यदि, जो, अगर (उत्त १०); 'एव च कम्मो तित्थ, न वेदवेतोति को गाहो ?' (विसे २५८६) ।

चे देखो चय = त्यज् । चेइ, (आचा) सक्क चेच्चा (कप, श्रौप) ।

चे } देखो चि । चेइ, चेअइ, चेए, चेअए चेअ } (पड) ।

चेअ अक [चित्] ? चेतना, सावधान होना, ख्याल रखना । २ सुध आना, स्मरण करना, याद आना । चेयइ (स ५३८) । ३ सक, जानना । ४ अनुभव करना । चेए (आवम) ।

चेअ सक [चेतय्] ? ऊपर देखो । २ देना, अर्पण करना, वितरण करना । ३ करना, बनाना, 'जो अतरायं चेएइ' (सम ५१) । चेराइ, चेएसि, चेएमि (आचा) । वक्क चेते[ए]माण (ठा ५, २—पत्र ३१४, सम ३६) ।

चेअ अ [एव] अवधारण सूचक अव्यय, निश्चय बतानेवाला अव्यय (हे २, १८५) ।

चेअ न [चेतस्] ? चेत, चेतना, ज्ञान, चैतन्य (विसे १६६१, भग १६) । २ मन, चित्त, अन्त करण (दस ५, १, ठा ६, २) ।

चेइ पु [चेदि] देश-विशेष (इक सत्त ६७ टी) । ^०वइ पु [^०पति] वेदि देश का राजा (पिम) ।

चेइ^० पुन [चैर्य] ? चिता पर बनाया चेइअ } हुआ स्मारक, स्तूप, कबर या कब्र वगैरह स्मृति चिह्न, 'मडयवाहेसु वा मडयवृत्तियासु वा मडयचेइएसु वा' (आचा २, २, ३) । २ व्यन्तर का स्थान, व्यन्तरायतन (भग उवा, राय, निर १, १, विपा १, १, २) । ३ जिन मन्दिर, जिन-गृह, अहंमन्दिर (ठा ४, २—पत्र ४३०, पचभा, पचा १२, महा, द्र ४, २७), 'पडिम कासी य चेइए रम्मे' (पव ७६) । ४ इष्ट देव की मूर्ति,

चच्च-चडुला

चच्च सक [चच्] चन्दन आदि का विलेपन करना। चच्चेई (धर्मवि १५)।

चच्च पु [चर्च] हेमाचार्य के पिता का नाम (कुप्र २०)।

चच्च पु [चर्च] समालम्भन, चन्दन वगैरह का शरीर में उपलेप (दे ६, ७६)।

चच्चर न [चत्वर] चौहट्टा, चौरास्ता, चौराहा, चौक (गाथा १, १, परह १, ३, सुर १, ६२, (हे २, १२, कुमा)।

चच्चरिअ पु [दे चच्चरीक] भ्रमर, भौरा (षड्)।

चच्चरिया स्त्री [चर्चरिका] १ नृत्य-विशेष (रभा)। २ देखो चच्चरी (म ३०७)।

चच्चरी स्त्री [चर्चरी] १ गीत-विशेष, एक प्रकार का गान, 'वित्थरियचच्चरीरवमुहरियउ-जाणभुभागे' (सुर ३, ५४), 'पारभियचच्चरी-गीया' (सुपा ५५)। २ गानेवाली टोली, गानेवालों का दूध, 'पवत्ते मयणमहूसवे निगयासु विचित्तवेसासु नयरचच्चरीसु', 'कह नीयचच्चरी अम्हाण चच्चरीए समासन् परिव्वयई' (स ४२)। ३ छन्द-विशेष (पिमा)। ४ हाथ की ताली की आवाज (भाव १)।

चच्चसा स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, 'अट्टसय चच्चसाण, अट्टसय चच्चसावायगाण' (राय)।

चच्चा स्त्री [दे] १ शरीर पर सुगन्धि पदार्थ का लगाना, विलेपन (दे ३, १६, पात्र, ज १, गाथा १, १, राय)। २ तल प्रहार, हाथ की ताली (दे ३, १६, षड्)।

चच्चार सक [उपा + छम्] उपालम्भ देना, उलाहना देना। चच्चारइ (षड्)।

चच्चिक वि [दे] १ मरिडत्त, विभूषित, चटुजयचच्चिकका दिसाउ' (दे ३, ४), 'तणुप्पहापडलचच्चिकको' (धम्म ६ टी), 'साहं गुणययणचच्चिकका' (चउ ३६)। २ पुन. विलेपन, चन्दनादि सुगन्धि वस्तु का शरीर पर मसलना (हे २, ७४), 'चच्चिको' (षड्), 'कुमुमचच्चिकछुरियंगो' (पउम २८, २८ टी), 'पेच्छइ सुवन्नकलस सुरचदण-पकचच्चिक' (उप ७६८ टी), 'धणुलेहिद-पकचच्चिको' (मुच्छ ११०)।

चच्चिय वि [चर्चित] विलिप्त (चेइय ८४५)। चच्चुप्प सक [अर्पय] अर्पण करना, देना। चच्चुप्पइ (हे ४, ३६)।

चच्च सक [तच्] छिलना, काटना। चच्चइ (हे ४, १६४)।

चच्चिअ वि [तष्ट] छिला हुआ (कुमा)।

चच्च सक [दृश्] देखना, अवलोकन करना। चच्चइ (दे ३, ४, षड्)।

चच्चो स्त्री [चर्चा] १ आचरण, वर्तन। २ चलन, गमन। ३ परिभाषा, संकेत (विसे २०४४)।

चच्चिय वि [दृष्ट] अवलोकित, देखा हुआ (महा)।

चट्टअ देखो चट्टुअ (गा १६२)।

चट्ट सक [दे] चाटना, अवलेह करना, 'न य अलोणिय सिल कोइ चट्टेई' (महा)।

चट्ट पु न [दे] १ भूख, दुःख, 'जीवति उदहिपडिआ, चट्टुच्छिन्ना न जीवति' (सूक्त ७०)। २ पु चट्टा, विद्यार्थी। 'साला स्त्री [शाला] चट्टशाला, चट्टसार, छोटे बालको की पाठशाला (बृह १)।

चाट्ट वि [चट्टिन्] चाटनेवाला (कप्पु)।

चट्टु पु [दे] दाख-हस्त, काठ की चट्टुअ कलछी, परोसने का पात्र-विशेष चट्टुल (दे ३, १, गा १६२ अ)।

चड सक [आ + रुह] चढना, ऊपर बैठना, आरूढ होना। चडइ (हे ४, २०६)। सक चडिउ, चडिऊण (सुपा ११४, कुमा)।

चड पु [दे] शिखा, चोटो (दे ३, १)।

चडक्क पु न [दे] १ चटकार, चटका (हे ४, ४०६, भवि)। २ शल-विशेष (पउम ७, २६)।

चडक्कारि वि [चटकारिन्] 'चटत्' शब्द करनेवाला (पवन आदि) (गडड)।

चडग देखो चडय (परण १)।

चडगर पु [दे] १ समूह, दूध, जल्था (पउम ६०, १५, गाथा १, १—पत्र ४६)। २ आडम्बर, आटोप, 'महया चडगरत्तणेण अत्यकहा हणइ' (दसनि ३)।

चडचड पु [चडचड] 'चड-चड' आवाज (विपा १, ६)।

चडचडचड अक [चडचडाय] 'चड-चड' आवाज करना। चडचडचडति (विपा १, ६)।

चडड पु [चटट] धनि-विशेष, विजली के गिरने की आवाज (सुर २, ११०)।

चडण न [आरोहण] चढना, ऊपर बैठना (धा १४, प्रासू १०१, उप ७२८ टी, श्रौष ३०, सट्टि १४२, वज्जा ५४)।

चडपड अक [दे] चटपटाना, छटपटाना, क्लेश पाना। वक्क चडपडत (मुद्रा ७२)।

चडय पु स्त्री [चटय] पक्षि-विशेष, गौरैया पक्षी (दे २, १०७)। स्त्री 'या (दे ८, ३६)।

चडवेला स्त्री देवो चवेडा (परह १, ३—पत्र ५३)।

चडावण न [आरोहण] चढना (उप १५२)।

चडाविय वि [आरोहित] चढाया हुआ, ऊपर स्थापित, 'रणभउरजिणहरे चडाविया कणयमयकलसा' (मुणि १०६०१, सुर १३, ३६, महा)।

चडाविय वि [दे] प्रेषित, भेजा हुआ, 'चाउहिंसिपि तेण चडाविय साहण त्था सोवि' (सुपा ३६५)।

चडिअ वि [आरूढ] चढा हुआ, आरूढ (सुपा १३७, १५३, १५६, हे ४, ४४५)।

चडिआर पु [दे] आटोप, आडम्बर (दे ३, ५)।

चडु पु [चट्ट] १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य। २ स्त्री का एक आसन। ३ उदर, पेट। ४ पु न प्रिय सम्भाषण, खुशामद (हे १, ६७, प्राप्र)।

'आर वि [कार] खुशामद करने-वाला, खुशामदी (परह १, ३)। 'आरअ वि [कारक] खुशामदी (गा ६०५)।

चडुकारि वि [चट्टकारिन्] खुशामदी (पिंड ४१४)।

चडुत्तरिया स्त्री [दे] १ उत्तरचड। २ वाद-विवाद (मोह ७)।

चडुयारि देखो चडुकारि (पिंड ४८६)।

चडुल वि [चट्टुल] १ चंचल, चपल (सि २, ४५, पउम ४२, १६)। २ कपवाला, हिलता हुआ (सि १, ५२)।

चडुला वि [दे. चट्टुलरु] खरह-खरह किया हुआ, 'विदुलगचडुलागच्छिने' (सूत्रनि ७१)।

चोणअ न [चोदन] प्रेरण, प्रेरणा (भक्त ३६, उक्त २८)।

चोइअ वि [चोदित] प्रेरित (स १५, सुपा १५०, श्रौप, महा)।

चोए सक [चोदय] १ प्ररत करना। २ सीखना, शिक्षण देना। चोएइ, चोएह (वव १)।

चोएक [दे] देखो चुक = (दे) (महा)।

चोकरख वि [दे] चोखा, शुद्ध, शुचि, पवित्र, (गाथा १, १, उप १४२ टी, बृह १, भग ६, ३३, राय, श्रौप)।

चोकरखलि वि [दे] चोखाई करनेवाला, शुद्धता वाला (पिंड ६०३)।

चोकरखा की [चाक्षा] परिव्राजिका-विशेष, इस नाम की एक संन्यासिनी (गाथा १, ८)।

चोळ न [दे] आश्चर्य, विस्मय (दे ३, १४, सुर ३, ४, सुपा १०३, सट्टि १५६, महा)।

चोळ न [चौर्य] चोरी, चोर-कर्म, 'लहेव हिंस अलिय, चोळ अवभसेवण' (उक्त ३५, ३, गाथा १, १८)।

चोळ न [चोद्य] १ प्ररत, वृच्छा। २ आश्चर्य, अद्भुत। २ वि. प्रेरणा-योग्य (गा ४०६)।

चोटी की [दे] चोटी, शिखा (दे ३, १)।

चोडु न [दे] वृत्त, फल और पत्ती का वणधन, (विक्र २८)।

चोड पु [दे] विल्व, वृक्ष-विशेष, तेल का पेड़ (दे ३, १६)।

चोणग न [दे] १ कलह, झगडा (नित्त २०)। २ काष्ठानयन आदि जपन्य कर्म (सुप्र २, २)।

चोत्त } पुन [दे] प्रतोद, प्राज्ञन-दण्ड, चोत्तअ } चादक (दे ३, १६, पात्र)।

चोट [दे] देखो चोय (पएह २, ५—पत्र १५०)।

चोदग देखो चोअअ (शोध ४ भा)।

चोदणा की [चोदना] प्रेरणा, किसी प्रभाव-शाली व्यक्ति की ओर से कुछ कहने या करने के लिए होनेवाला संकेत (धर्मसं १२४०)।

चोपपड सक [अक्ष] स्निग्ध करना, धी तेल वगैरह लगाना। चोपपडइ (हे ४, १६१)।

वक्र. चोपपडमाण (कुमा)।

चोपपड न [अक्ष] धी, तेल वगैरह स्निग्ध वस्तु, गेहव्ययस्स जोग किंचिचि कएचोप-डाईय' (सुपा ४३०)।

चोपपडिय वि [दे] जुपडा हुआ (पव ४)।

चोपपाल पु [चतुष्पाल] सूर्याम देव की आयुष-शाला (राय ६३)।

चोपपाल न [दे] मत्तवारण, वरगडा (ज २)।

चोफुच्च वि [दे] स्निग्ध, स्नेहवाला, प्रेम-शुक्त, प्रेमी (दे ३, १५)।

चोय } न [दे] त्वचा, छान (पएह २, चोयग } ५—पत्र १५० टी)। २ आम वगैरह का रखा (नित्त १५, आचा २, १, १०)। ३ गन्ध द्रव्य-विशेष (अणु, जीव १, राय)।

चोयग देखो चोअअ (एवि)।

चोयणा की [चोदना] प्रेरणा (स १५, उप ६४८ टी)।

चोयय पु [दे] फल-विशेष (अणु १५४)।

चोयालीस की न [चतुश्चत्वारिंशत्] चौवालीस, ४४ (वेदय ३६२)।

चोर पु [चोर] तस्कर, दूसरे का धन चुराने-वाला (हे ३, १३४, पएह १, ३)। *कीड पु [कीट] विद्या में उत्पन्न होता कीट (जी १७)।

चोरकार पु [चौर्यकार] चोर, तस्कर, 'चोरकारकर न शूलमदत्त तय वज्जे' (सुपा ३३४)।

चोरग वि [चोरक] १ चुरानेवाला। २ पुन धनस्वति-विशेष (पएण १—पत्र ३४)।

चोरण न [चोरण] १ चोरी, चुराना (सुर ८, १२२)। २ वि चोर, चोरी करनेवाला (भवि)।

चोरली की [दे] श्रावण मास की कृष्ण चतुर्विंशी (दे ३, १६)।

चोरग पु [चोराक] सन्निवेश विशेष, इस नाम का एक छोटा गाँव (श्रावम)।

चोराव सक [चोरय] चोरी करना। चोरावेइ (प्राक ६०)।

चोरासी } देखो चउरासी (पि ४३६, चोरासीइ } ४४६)।

चोरिअ न [चौर्य] चोरी, अपहरण (हे २, १०७, ठा १, १, प्रासू ६५, सुपां ३७६)।

चोरिअ वि [चौरिक] १ चोरी करनेवाला (पव ४१)। २ पु चर, जासूस (पएह १, १)। चोरिअ वि [चोरित] चुराया हुआ (विदे ८५७)।

चोरिआ की [चौर्य, चौरिका] चोरी, अपहरण (गा २०६, षड्, हे १, ३५, सुर ६, १७८)।

चोरिअ न [चौरिक्य] ऊपर देखो (पएह १, ३)।

चोरी की [चौरी] चोरी, अपहरण (आ २७)।

चोल वि [दे] १ नामन, कुञ्ज (दे ३, १८)।

२ पु पुरुष चिह्न, लिङ्ग (पव ६१)। ३ न गन्ध-द्रव्य विशेष, मजिष्ठा (उर ६, ४)।

*पट्ट पु [पट्ट] जैन मुनि का कटिनत्र (श्रौप ३४)। *य पु [ज] मज्जील का रा (उर ६, ४)।

चोल पु [चोल] देश-विशेष, प्रविड और कलिङ्ग के बीच का देश (पिग, सण)।

चोलअ न [दे] कवच, वर्म (नाट)।

चोलअ } न [चौल, *क] सस्कार विशेष, चोला } भुएडन, 'विहिणा चलाकम्म वालण

चोलय नाम' (श्रावम: पएह १, २)।

चोलुक्क देखो चालुक (ती ५)।

चोलोयणग न [चूलापनयन] १ चूलेम

चोलोचणय } नयन, सस्कार-विशेष, सुडन

चोलोचणयण } (गाथा १, १—पत्र ३८)।

२ शिक्षा-धारण, चूडा-धारण (भा ११, ११—पत्र ५४४, श्रौप)।

चोएक [दे] देखो चोला (पएह २, ४)।

चोएक } पु न [दे] १ भोजन (उप पृ १३, चोला } श्रावम: उक्त ३)। २ वि. शुद्धक,

छोटा, लघु (उप पृ ३१)।

चोएय पु न [दे] धेला, वीरा, गोन, 'पर मम

समकळ तोलेह चोएए', 'राइणा उक्केला

वियाइ चोएएयाइ' (महा)।

चोवत्तरि की [चतु सप्तति] सत्तर की

चार, ७४ (पव ५, १८)।

चोवालय पु न [चतुर्हार] चौबारा, ज्ञ

का शयन-गृह, 'इमो म एणा देवी हविमिं

आसत्ता। एअवर हत्थी चो—(१) चोवाण

याओ हत्थेण अत्तारिइ' (वव २, १० टी)

चोव्वड देखो चोपपड = अक्ष। चोव्वड

(पड)।

[^०घारिणी] चामर बीजने या डोलनेवाली स्त्री (सुपा ३३६, सुर १०, १५७)।

चमरी स्त्री [चमरी] चमर-पशु की मादा, सुरही गाय (से ७, ४८, स ४४१, श्रौप, महा)।

चमस पुंन [चमस] चमचा, कलछी, दर्वी (श्रौप, महा)।

चमुकार पु [चमत्कार] १ आश्चर्य, विस्मय, 'पेच्छागयसुराकिन्नरचित्तचमुकारकारय' (सुर १३, ६७)। २ विजली का प्रकाश, 'ताव य विज्जुचमुकारणतर चडचडडससहो' (सुर २, ११०)।

चमू स्त्री [चमू] १ सेना, सैन्य, लश्कर (भावम)। २ सेना-विशेष, जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ घोड़े और ३६४५ पैदल हो ऐसा लश्कर (पउम ५६, ६)।

चम्म न [चर्मन्] छाल, त्वक्, चमडा, खाल (हे १, ३२, स्वप्न ७०, प्रासू १७१)। ^०किड वि [^०किट] चमड़े से सीमा हुआ (भग १३, ६)। ^०कोस, ^०कोसय पु [कोश, ^०क] १ चमड़े का बना हुआ थैला २ एक तरह का चमड़े का झूता (श्रौघ ७२८, आचा २, २, ३, वव ८)। ^०कोसिया स्त्री [^०कोशिका] चमड़े की बनी हुई थैली (सूअ २, २)। ^०खडिय वि [^०खडिडक] १ चमड़े का परिवानवाला। २ सब उपकरण चमड़े का ही रखनेवाला (एयाया १, १५)। ^०ग वि [^०ग] चमड़े का बना हुआ चर्ममय (सूअ २, २)। ^०पक्खि पु [^०पक्षिन्] चमड़े की पाँखवाला पक्षी (ठा ४, ४—पत्र २७१)। ^०पट्ट पु [^०पट्ट] चमड़े का पट्टा, वस्त्र (विपा १, ६)। ^०पाय न [^०पात्र] चमड़े का पात्र (आचा २, ६, १)। ^०यर पु [^०कर] मोची, चमार (स २/६, दे २, ३७)। रयण न [^०रत्न] चक्रवर्ती का रत्न विशेष, जिससे सुवह में बोधे हुए शालि वगैरह उसी दिन पक कर खाने योग्य हो जाते हैं (पव २१२)। ^०रुक्ख पु [^०रुक्ख] वृक्ष-विशेष (भग ८, ३)।

चम्मट्टि स्त्री [चर्मयट्टि] चर्म-मय यष्टि, चर्म-दारु, चमडा लगी हुई छडी (कप्प)।

चम्मट्टिअ अक [चर्मयट्टीय] चर्म-यष्टि की तरह आचरण करना। वक्क चम्मट्टिअंत (कप्प)।

चम्मट्टिल पु [चर्मास्थिल] पक्षि-विशेष (पएह १, १)।

चम्मर पु [चर्मकार] चमार, मोची (विसे २६८८)।

चम्मरय पु [चर्मकारक] ऊपर देखो (प्राप)।

चम्मिय वि [चर्मित] चर्म से बँधा हुआ, चर्म-वेष्टित (श्रौप)।

चम्मेट्ट पु [चर्मेट्ट] प्रहरण-विशेष, चमड़े से वेष्टित पापाएवाला आयुध (पएह १, १)।

चम्मेट्टग पुत्री [चर्मेट्टग] शस्त्र-विशेष (राय २१)। स्त्री ^०गा (अणु १७५)।

चय सक [चयज्] छोड़ना, त्याग करना। चयइ (पाअ, हे ४, ८६)। कर्म चयइइ (उव)। वक्क चयत (सुपा ३८८)। सक चइअ, चइउ, चिच्चा, चइऊण, चइत्ता, चइत्ताण, चइत्तु (कुमा, उत १८, महा, उवा, उत १)। कृ चइयव्व (सुपा ११६, ४०५, ५२१)।

चय सक [चयक] सकना, समर्थ होना। चयइ (हे ४, ८६)। वक्क चयत (सूअ १, ३, ३, से ६, ५०)।

चय अक [चयु] मरना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना। चयइ (भवि), चयति (भग)। वक्क चयमाण (कप्प)।

चय पु [चय] १ शरीर, देह (विपा १, १, उवा)। २ सपूह, राशि, डेर (विसे २२१६, सुपा ५७१, कुमा)। ३ इकट्ठा होना (अणु)। ४ वृद्धि (आचा)।

चय पु [चय] ईंटों की रचना-विशेष (पिड २)।

चय पु [चयव] चयव, जन्मान्तर-गमन (ठा ८, कप्प)।

चयण न [चयन] १ इकट्ठा करना (पव २)। २ ग्रहण, उपादान (ठा २, ४)।

चयण न [चयजन्] त्याग, परित्याग (सट्टि ३६)।

चयण न [चयवन] १ मरण, जन्मान्तर-गमन (ठा १—पत्र १६)। २ पतन, गिर जाना। ^०कप्प पु, ^०कल्प] १ पतन-प्रकार, चारित्र वगैरह से गिरने का प्रकार। २ शिथिल साधुओं का विहार (गच्छ १, पचमा)।

चयण न [चयवन] च्युति, भ्रंश, क्षय (तंदु ४१)।

चर सक [चर्] १ गमन करना, चलना, जाना। २ भक्षण करना। ३ सेवना। ४ जानना। चरइ (उव, महा)। भूका चरिसु (गउड)। भवि चरिस्सं (पि १७३)। वक्क चरत, चरमाण (उत २, भग, विपा १, १)। सक चरिअ, चरिऊण (नाट—मृच्छ १०, भावम)। हेक्क चरिउ, चारए (श्रौघ ६५, कस)। कृ चरियव्व (भग ६, ३३)। प्रयो, चारियव्व (पएण १७—पत्र ४६७)।

चर पुं [चर] १ गमन, गति। २ वर्तन (दस, भावम ३ दूत, जासूस (पाअ, भवि)।

चर पुं [चर] जगम प्राणी (जुअ २४)।

^०चर वि [^०चर] चलनेवाला (आचा)।

चरती स्त्री [चरन्ती] जिस दिशा में भगवान् जिनदेव वगैरह जानी पुरुष विचरते हो वह (वव १)।

चरग पु [चरक] १ देखो चर=चर। २ सन्यासियों का झुण्ड विशेष, युयवध धूमने वाले त्रिदण्डियों की एक जाति (भग, गच्छ २)। ३ भिक्षुओं की एक जाति (पएण २०)। ४ दश-मशकादि जन्तु (राज)।

चरचरा स्त्री [चरचरा] 'चर-चर' श्रावाज (स २५७)।

चरड पु [चरट] जुट्टेरे की एक जाति (धम्म १२ टी, सुपा २३२, ३३३)।

चरण पुन [चरण] १ समय, चारित्र, 'सम्म-त्तनाएचरणा पत्तेय अट्टमट्टमेइल्ला' (संबोध २२)। २ आचरण (सूअनि १२४)।

चरण न [चरण] १ समय, चारित्र, व्रत, नियम (ठा ३, १, श्रौघ २, विसे १)। २ चरना, पशुओं का टुण्णादि-भक्षण (सुर २, ३)। ३ पद का चौथा हिस्सा (पिंग)। ४ गमन, विहार (एदि, सूअ १, १०, २)। ५ सेवन, आदर (जीव २)। ६ पाद, पाँव

‘अतेउरपुरबलवाहणेहि
वरसिरिघरेहि मुणिवसभा ।
कामेहि बहुविहेहि य
छदिज्जातिवि नेच्छति’ (उव) ।
संक्र. छंदिअ (दस १०) ।

छद् पुन [छन्द] ? इच्छा, मरजी, अभिलाषा
(आचा, गा २०२, स २३६, उव, प्रासू ११) ।
२ अभिप्राय, आशय (आचा, भग) । ३ वशता,
अधीनता (उत्त ४, हे १, ३३) । °चारि वि
[°चारिन्] स्वच्छन्दी, स्वैरी (उप ७६८
टी) । °इत्त वि [°वत्] स्वैरी (भवि) ।
°णुवत्तण न [°णुवत्तन] मरजी के
अनुसार बरतना (प्रासू १४) । °णुवत्तय
वि [°णुवत्तक] मरजी का अनुसरण
करनेवाला (णया १, ३) ।

छद् पुन [छन्दस्] ? स्वच्छन्दता, स्वैरिता
(उत्त ४) । २ अभिलाष, इच्छा । ३ आशय,
अभिप्राय (सूत्र १, २, २, आचा, हे १,
३३) । ४ छन्द-शास्त्र (सुपा २८७, औप) ।
५ वृत्त, छन्द (वज्जा ४) । °णुय वि [°ण]।
छन्द का जानकार (गउड) ।

छदण पुंन [छादन] ढकना, ढकन (राम
६६) ।

छदण न [छन्दन] निमन्त्रण (पिड ३१०) ।

छदण न [वन्दन] वन्दन, प्रणाम, नमस्कार
(सुभा ४) ।

छदणा स्त्री [छन्दना] ? निमन्त्रण (पचा
१२) । २ प्रार्थना (बृह १) ।

छदा स्त्री [छन्दा] दीक्षा का एक भेद, अपने
या दूसरे के अभिप्राय-विशेष से लिया हुआ
सन्यास (ठा २, २, पचभा) ।

छदिअ वि [छन्दित] अनुज्ञात, अनुमत
(श्रीघ ३८०) । २ निमन्त्रित (निचू २) ।

छदो° देखो छद् = छन्दस् (आचा, अभि १२६) ।

छक्क वि [षट्क] छक्का, छ का समूह,
‘अतरिउछक्काअनकता (सुपा ५१६, सम
३५) ।

छग देखो छ = षष् (कम्म ४) ।

छग न [दे] पुरोध, विद्या (परह १, ३—
पत्र ५४, श्रीघ ७२) ।

छग देखो छक्क (पव २७१) ।

छगण न [स्थगन] पिघान, ढकना (वव ४) ।
छगण न [दे] गोमय, गोबर (उप ५६७ टी,
पंचा १३, निचू १२) ।

छगणिया स्त्री [दे] गोइठा, कडा (अनु ५) ।

छगल पुली [छगल] छाग, अज, बकरा
(परह १, १, औप) । स्त्री °ली (दे २, ८४) ।
°पुर न [°पुर] नगर-विशेष (ठा १०) ।

छग देखो छक्क (व ११) ।

छगुरु पु [पड्गुरु] ? एक सौ और अस्ती
दिनो का उपवास । २ तीन दिनो का उपवास
(ठा २, १) ।

छच्छुदर पुन [दे] छछुंदर, सूसे या चूहे
की एक जाति (स १६) ।

छज्ज अक [राज] शोभना, चमकना ।
छज्जइ (हे ४, १००) ।

छज्जिअ वि [राजित] शोभित, अलंकृत
(कुमा) ।

छज्जिआ स्त्री [दे] पुष्प-पात्र, चगेरी (स
३३४) ।

छट्टा [दे] देखो छटा (पड्) ।

छट्ट वि [पट्ट] ? छट्टा (सम १०४, हे १,
२६५) । २ न लगातार दो दिनो का उपवास
(सुर ४, ५५) । °क्खमण न [°क्षमण,
°अपण] लगातार दो दिनो का उपवास
(अत ६, उप पृ ३४३) । °क्खमय पु
[°क्षमक, °क्षपक] दो-दो दिनो का बराबर
उपवास करनेवाला तपस्वी (उप ६२२) ।
°भत्त न [°भक्त] लगातार दो दिनो का
उपवास (धर्म ३) । °भत्तिय वि [°भक्तिक]
लगातार दो दिनो का उपवास करनेवाला
(परह १, १) ।

छट्टी स्त्री [षट्ठी] ? तिथि-विशेष (सम २६) ।
२ विभक्ति विशेष, संबन्ध-विभक्ति (एदि,
हे १, २६५) । ३ जन्म के बाद किया जाता
उत्सव-विशेष (सुपा ५७८) ।

छड सक [आ+रुह] आरूढ होना,
चढना । छडइ (पड्) ।

छडक्खर पुं [दे] स्कन्द, कार्तिकेय (दे
२, २६) ।

छडछडा स्त्री [छट्छटा] सूर्प (सूप) बगैरह
से धन को आढते समय होता एक प्रकार का
अव्यक्त आवाज (णया १, ७—पत्र ११६) ।

छडा स्त्री [दे] विद्युत्, बिजली (दे ३, २४) ।
छडा स्त्री [छटा] ? समूह, परम्परा (सुर ४,
२४३, वा १२) । २ छोट, पानी की बूंद
(पात्र) ।

छडाल वि [छटावत्] छयवाला (पव
३५, १८) ।

छडिय वि [छटित] सूप घादि से छँटा या
फटका हुआ (तदु २६, राय ६७) ।

छडु सक [छर्दय, मुच्] ? वमन करना ।
२ छोड़ना त्याग करना । ३ डालना, गिराना ।
छडइ (हे २, ३६, ४, ६१, महा, उव) ।
कर्म छडिज्जइ (पि २६१) । वक्क छडुत्त
(भाग) । सक छडुत्त भूमि ए लोरं जह पिपइ
दुट्टमजारी (विसे १४७१) । छडुत्त (वव २) ।

छडुण न [छर्दन, मोचन] ? परिष्ठाण,
विमोचन (उप १७६, औघ ८६) । २ वमन,
वान्ति (विपा १, ८) ।

छडुय वि [छर्दक] छोड़नेवाला (कुप्र ३१७) ।
२ पु एक सेठ का नाम (कुप्र ३६६) ।

छडुयण न [छर्दन, मोचन] ? छुडवाना,
मुक्त करवाना । २ वमन कराना । ३ वि-
वमन करानेवाला । ४ छुडानेवाला (कुमा) ।

छडुयय वि [छर्दक, मोचक] त्याग करने
वाला, त्यागक (दे २, ६२) ।

छडुयण देखो छडुयण (सुपा ५१७) ।

छडुयिय वि [छर्दित, मोचित] ? वमन
कराया हुआ । २ छुडवाया हुआ (भावम-
बृह १) ।

छडुि स्त्री [छर्दि] वमन का रोग (पड्, हे २,
३६) ।

छडुि स्त्री [छर्दिस्] छिद्र, द्वारण, जो
जगह परछाडि, सो नियछहीए कि सुयर्द
(महा) ।

छडुिय } वि [छर्दित, मुक्त] ? वान्त,
छडुियल्लिय } वमन किया हुआ । २ त्यक,
मुक्त (विसे २६०६, दे १, ४६, औप) ।

छण सक [क्षण] हिसा करना । छणे
(आचा) । प्रयो छणावेइ (पि ३१८) ।

छण सक [क्षण] छेदन करना । छणइ
(सूत्र २, १, १७) ।

छण पु [क्षण] ? उत्सव, मह (हे २, २०) ।
२ हिसा (आचा) । °चद पुं [°चन्द] शरद

चव अक [च्यु] मरना, जन्मान्तर मे जाना ।
 चवइ (हे ४, २३५) । सकु चविऊण
 (प्राह) । क चवियव्व (ठा ३, ३) ।
 चव पु [च्यव] मरण, मौत, 'मन्ता अपुण-
 चव, (उत्त ३, १४) ।
 चवचव पु [चवचव] 'चव-चव' आवाज,
 ध्वनि-विशेष (शोध २८६ भा) ।
 चवण न [च्यवण] १ मरण, जन्मान्तर-प्राप्ति
 (सुर २, १३६, ७, ८, ८४) । २ पतन,
 गिर जाना (वृह १) ।
 चवल वि [चपल] १ चचल, अस्थिर (सुर
 १२, १३८; प्रासू १०३) । २ आकुल, व्या-
 कुल (शौभ) । ३ पु रावण का एक सुभट
 (पञ्च ५६, ३६) ।
 चवल पु [दे] अन्न-विशेष, बोडा (श्रा १८) ।
 चवल्य पु [दे] धान्य-विशेष, गुजराती मे
 'चोळ' (पव १५४) ।
 चवला स्त्री [चपला] विद्युत्, विजली (जीव
 ३) ।
 चविअ वि [च्युत] मृत, जन्मान्तर-प्राप्त
 (कुमा २, २६) ।
 चविअ वि [कथित] उक्त, कहा हुआ (भवि) ।
 चविआ स्त्री [चविका] वनस्पति विशेष
 (पण १७—पत्र ५३१) ।
 चविडा } स्त्री [चपेटा] तमाचा, थप्पड
 चविला } (हे १, १४६, कुमा) ।
 चवेला स्त्री [दे] १ श्लिष्ट कर-सपुट । २ संपुट,
 सपुट, डिब्बा (दे ३, ३) ।
 चवेण न [दे] वचनीय, लोकापवाद (दे ३,
 ३) ।
 चवेला देखो चविडा (प्राह) ।
 चव्य सक [चर्व] चवाना (सक्ति ३४) ।
 चव्व (शौ) देखो चव्व = चर्व् । चव्वि (प्राह
 ६३) ।
 चव्वकिअ वि [दे] धवलित, चूने से पोता
 हुआ, 'चव्वकिअया व च्चुन्नेण नासिया (सुपा
 ४५५) ।
 चव्वण न [चर्वण] चवाना (दे ७, ८२) ।
 चव्वाइ देखो चव्वामि (राज) ।
 चव्वामि } पुं [चार्वाक] नास्तिक, बृहस्पति
 चव्वामि } का शिष्य, लोकायतिक (प्रवो
 ७८, राज) ।

चव्वामि वि [चार्वाकिन्] १ चवानेवाला ।
 २ दुर्व्यवहारी (वव ३) ।
 चव्विवय वि [चर्वित] चवाया हुआ (सुर
 १३, १२३) ।
 चस सक [चप्] चखना, आस्वाद लेना ।
 चसद (शौ) (रभा) । हेक्क चसिदु
 (शौ) (रभा) ।
 चसग } पु [चपक] १ दाह पीने का प्याला
 चसय } (ज ५, पात्र) । २ पान-पात्र, प्याला
 (सुर २, ११; पञ्च ११३, १०) । ३ पक्षि-
 विशेष (दे ६, १४५) ।
 चहुतिया स्त्री [दे] बूटकी, बूटकीभर, 'जोग-
 बुण्णचहृतियामेत्तपक्खेवेण' (काल) ।
 चहुट्ट अक [दे] चिपकना, चिपटना, लगना,
 गुजराती मे 'चोंटवु', 'रे मूढ वुह अकण्जे
 लीलाइ चहुट्टए जहा चित्त' (सवेग १६) ।
 चहुट्टइ (कुप्र २४६) ।
 चहुट्ट वि [द] १ निमग्न, लीन (दे ३, २,
 वजा ३८), 'मण-भमरो-पुण तीए मुहाराविदे-
 चिय चहुट्टो' (उप ७२८ टी) ।
 चहुट्ट } वि [दे] चिपका हुआ, लगा
 चहुट्टिय } हुआ (धर्मवि १४१, उप ७२८
 टी; कुप्र २७) ।
 चहोड पु [दे] एक मनुष्य जाति (भवि) ।
 चाइ वि [त्यागिन्] १ त्याग करनेवाला,
 छोड़नेवाला । २ दानी, दान देनेवाला, उदार
 (सुर १, २१७, ४, ११८) । ३ नि सग,
 निरीह, सयमी (आचा) ।
 चाइय वि [त्याजित] छोड़वाया हुआ (धर्मवि
 ८) ।
 चाइय वि [शक्ति] जो समर्थ हुआ हो
 (पञ्च ७, १२१; सूत्र १, १४), 'सव्वोवा
 एहि जया धेत्तूण न चाइया सुरिदेण । ताहे
 ते नेरइया' (पञ्च ११८, २४) ।
 चाउअगी स्त्री [चार्वाङ्गी] सुन्दर अगवाली
 स्त्री (प्राह २६) ।
 चाउड पु [चामुण्ड] राक्षस-वश का एक
 राजा, एक लक्ष्मी-पति (पञ्च ५, २६३) ।
 चाउकाल न [चतुष्काल] चार वक्त, चार
 समय (विसे २५७६) ।
 चाउक्कोण वि [चतुष्कोण] चार कोनावाला,
 चतुरस्र (जीव ३) ।

चाउगण्ट } वि [चतुर्घण्ट] चार घटावाला,
 चाउघट } चार घण्टाघो से युक्त (गाया
 १, १; भग ६, ३३; निर १) ।
 चाउज्जाम न [चातुर्थांम] चार महाव्रत,
 साधु-धर्म—अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरि-
 ग्रह ये चार साधु-व्रत (गाया १, ७, ठा ४,
 १) ।
 चाउज्जाय न [चातुर्जाति] दालचीनी, तमा-
 लपत्र, इलायची और नागकेसर (उप पृ
 १०६, महा) ।
 चाउत्थिग देखो चाउत्थिय (उत्तनि ३) ।
 चाउत्थिय पु [चातुर्थिक] रोग विशेष, चौथे-
 चौथे दिन पर होनेवाला ज्वर, चौथिया
 बुखार (जीव ३) ।
 चाउत्तिसिया स्त्री [चतुर्दशिका] तिथि-विशेष,
 चतुर्दशी, चौदस; 'हीणपुणएचाउत्तिसिया'
 (उवा) ।
 चाउत्तिसी स्त्री [चतुर्दशी] ऊपर देखो (भग-
 जो ३) ।
 चाउत्तहाह (अप) त्रि. व. [चतुर्दशान्]
 चौदह, १४ (पिग) ।
 चाउत्तिसि देखो चउत्तिसि (महा; सुपा ३६५)
 चाउत्तपाय न [चतुष्पाद] चतुर्विध, चार
 प्रकार का (उत्त २०, २३; सुख २०, २३) ।
 चाउत्तमास } पुन [चातुर्मास] १ चौमासा,
 चाउत्तमास } जैसे आषाढ से लेकर कार्तिक
 तक के चार महीने (उप पृ ३६०, पचा
 १७) । २ आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन
 मास की शुक्ल चतुर्दशी, 'पक्खिए चाउत्तमासे'
 (लहुम १६) ।
 चाउत्तमासिअ वि [चातुर्मासिक] १ चार
 मास सम्बन्धी, जैसे आषाढ से लेकर कार्तिक
 तक के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला
 (गाया १, ५; सुर १४, २२८) । २ न.
 आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन मास की शुक्ल
 चतुर्दशी तिथि, पर्व-विशेष (श्रा ४७; अजि
 ३८) ।
 चाउत्तमासी स्त्री [चातुर्मासी] चार मास,
 चौमासा, आषाढ से कार्तिक, कार्तिक से
 फाल्गुन और फाल्गुन से आषाढ तक के चार
 महीने (पञ्च ११८, ५८) ।

छल^० देखो छ = पप् (कम्म ६, ९) ।
 छल सक [छलय्] ठाना, वञ्चना ।
 छलिज्जेज्जा (स २१३) । सक छल्लिउ,
 छल्लिऊण (महा) । क. छल्लिअव्व (आ १४) ।
 छल न [छल] १ कपट, माया (उव) । २
 व्याज, बहाना (पात्र, प्रासु ११४) । ३ अर्थ-
 विघात, वचन-विघात, एक तरह का वचन-
 युद्ध (सूत्र १, १२) । ४ अयण न [अयत्तन]
 छल, वचन-विघात (सूत्र १, १२) ।
 छलस वि [पडस्स] पट्-कोण, छ कोणवाला
 (ठा ८) ।
 छलसिअ वि [पडस्सिक] छ कोणवाला
 (सूत्र २, १, १५) ।
 छलण न [छलन] प्रक्षेपण, फेंकना (आचानि
 ३११) ।
 छलण न [छलन] ठगाई, वञ्चना (सुर ६,
 १८२) ।
 छलणा जी [छलना] १ ठगाई, वञ्चना
 (श्लो ७८५, उप ७७६) । २ छल, माया,
 कपट (विसे २५४५) ।
 छलत्थ वि [षडर्थ] छ अर्थवाला (विसे
 ६०१) ।
 छलसीअ जीन [पडशीति] सव्या-विशेष,
 अस्ती और छ, ८६ (भग) ।
 छलसीइ जी ऊपर देखो (सम ६२) ।
 छल्लिअ वि [छल्लित] १ वञ्चित, विप्रतारित,
 ठगा हुआ (भवि, महा) । २ श्रुद्धार-काव्य ।
 ३ चोर का इशारा, तस्कर-सजा (राज) ।
 छल्लिअ वि [दे] विदग्ध, चालाक, चतुर (दे
 ३, २४, पात्र) ।
 छल्लिअ न [छल्लिक] नाट्य-विशेष (मा ४) ।
 छल्लिअ वि [स्खलित] स्खलन-प्राप्त (श्लो
 ७८६) ।
 छल्लिया देखो छल्लिया, 'चोरणाकरं छल्लियात-
 क्केण दिन्न' (महा) ।
 छल्लुअ } पु. [षड्लुक] वैशेषिक मत-प्रव-
 छल्लुअ } त्तक कर्णाद ऋषि (कम्म, ठा ७,
 छल्लुअ } विसे २३०२), 'दग्वाइछप्पयत्थो-
 वएसणाओ छल्लुअत्ति' (विसे २५०८, २४५५) ।
 छल्ली जी [दे] त्वचा, बल्कल, छाल (दे ३,
 २४, जी १३, गा ११५, ठा ४, १, राया
 १, १३) ।

छल्लुय देखो छल्लुअ (पि १४८) ।
 छव देखो छिव । छवेम (सुपा ५७३) ।
 छवडी जी [दे] चर्म, चाम, चमडा (दे ३,
 २५) ।
 छवि जी [छवि] १ कान्ति, तेज (कुमा,
 पात्र) । २ अग, शरीर (परह १, १) ।
 चर्म, चमडी (पात्र, जीव ३) । ४ अवयव
 (पडि) । ५ अंगी, शरीरी (ठा ४, १) ६
 अलङ्कार-विशेष (अणु) । ७ च्छेअ पु
 [च्छेद] अङ्ग का विच्छेद, अवयव कर्तन
 (पडि) । ८ च्छेयण न [च्छेदन] अग-
 च्छेद (परह १, १) । ९ ताण न [त्राण]
 चमडी का आच्छादन, कवच, वर्म (उत्त २) ।
 छविअ वि [स्पृष्ट] छूना हुआ (आ २७) ।
 छविपव्व न [छविपव्वन्] औदारिक शरीर
 (उत्त ५, २४) ।
 छवीइय वि [छविमत्] १ कान्तिवाला ।
 २ धन, निविड (आचा २, ४, २, ३) ।
 छव्वग [दे] देखो छव्वय (राज) ।
 छव्विअ वि [दे] पिहित, आच्छादित (गउड) ।
 छह (अप) देखो छ + पप् (पि ४४१) ।
 छहत्तर वि [पट्समत] छिहत्तरवा, ७६ वां
 (पउम ७६, २७) ।
 छहत्तर जी [पट्समति] छिहत्तर, ७६ (पव
 १६) ।
 छाअ देखो छाव (प्राक १५) ।
 छाइअ वि [छादित] आच्छादित, ढका हुआ
 (पउम ११३, ५४, कुमा) ।
 छाइल्लि वि [छायावत्] छायावाला, कान्ति-
 युक्त (हे २, १५६, पड्) ।
 छाइल्ल पु [दे] १ प्रदीप, दीपक, 'जोइक्ख
 तह छाइल्लयं च दीव मुणेजाहि' (वव ७, दे
 ३, ३५) । २ वि सदृश, समान, तुल्य । ३
 ऊन, अघूरा (दे ३, ३५) । ४ सुष्प, सुडील,
 रूपवान् (दे ३, ३५, पड्) ।
 छाई देखो छाया (पड्) ।
 छाई जी [दे] माता, देवी, देवता (दे ३,
 २६) ।
 छाउमत्थ न [छादमत्थय] छपत्थ-अवस्था
 (सट्टि ६ टी) ।
 छाउमत्थिय वि [छादमत्थिक] केवलज्ञान
 उत्पन्न होने के पहले की अवस्था में उत्पन्न,

सर्वज्ञता की पूर्ववस्था से सबन्ध रखनेवाला
 (सम ११, परएण ३६) ।
 छाओवग वि [छायोपग] १ छाया-युक्त,
 छायावाला (बुद्धादि) २ पु. सेवनीय पुत्र,
 माननीय पुत्र (ठा ४, ३) ।
 छागल वि [छागल] १ अज संबन्धी (ठा ५,
 ३) । २ पु अज, बकरा । जी ० ली (पि
 २३१) ।
 छागल्लिय पु [छागल्लिक] छागो से प्राणीविक
 करनेवाला, अजा-पालक (विपा १, ४) ।
 छाण न [दे] १ धान्य वगैरह का मलन (दे
 ३, ३४) । २ गोमय, गोबर (दे ३, ३४;
 सुर १२, १७, राया १, ७, जीव १) । ३
 वज्र, कपडा (दे ३, ३४, जीव ३) ।
 छाणण न [दे] छानना, गालन; 'भूमिपहण-
 णल्लच्छायणाइ जयणाओ होइ न्हाणाई' (सट्टि
 ४५ टी) ।
 छाणवइ (अप) देखो छणवइ (पिंग) ।
 छाणी जी [दे] १ धान्य वगैरह का मलन ।
 २ वज्र, कपडा (दे ३, ३४) । ३ गोमय,
 गोबर (दे ३, ३४, धर्म २) ।
 छाणी जी [दे] कडा, गोबर का इत्यव (पव
 ३८) ।
 छाय वि [छात] जराण्डित, धाववाला (दस
 ६, २, ७) ।
 छाय सक [छादय्] आच्छादन करना,
 ढकना । छायइ (हे ४, २१) । वक्क छायंत
 (पउम ७, १४) ।
 छाय वि [दे छात] १ बुधुमित, भूषा (दे
 ३, ३३, पात्र, उप ७६८ टी, श्लो २६०
 भा) । २ कृश, दुर्बल (दे ३, ३३, पात्र) ।
 छायसि वि [छायावत्] कान्तिपात्र,
 तेजस्वी (सम १५२) ।
 छायण न [छादन] आच्छादन, ढकना (पिंग,
 महा, स ११) ।
 छायण न [छादन] १ घर की छत, छाजन
 (पिंड ३०३) । २ ढकन, आवरण । ३ वज्र,
 कपडा (सुख ७, १५) ।
 छायणिया } जी [दे] ढेरा, पढान, छावनी;
 छायणी } 'तो तत्थेव डिओ एसो कुणिया
 गिह्छायणि' (आ १२, महा) ।

चारणिआ छी [चारणिका] गणित-विशेष (श्लोक २१ टी) ।
 चारभट्ट पु [चारभट्ट] शूर पुरुष, लडवैया, सैनिक (परह १, २, १, ३, बृह १) ।
 चारभट्ट पु [चारभट्ट] लुटेरा (पिंड ५७६) ।
 चारय देखो चारग (सुपा २०७, ल १५) ।
 चारवाय पु [दे] श्रोत्रम ऋतु का पवन (दे ३, ६) ।
 चारहड देखो चारभट्ट (बम्म १२ टी, भवि) ।
 चारहडी छी [चारभटी] शौर्यवृत्ति, सैनिक-वृत्ति (सुपा ४४१, ४४२, हे ४, ३६६) ।
 चारागार न [चारागार] कैदखाना, जेलखाना (सुर १६, १७) ।
 चारि छी [चारि] चारा, पशुओं के खाने की चीज, घास आदि (श्लोक २३८) ।
 चारि वि [चारिन्] १ प्रवृत्ति करनेवाला । (विसे २४३ टी, उव, आचा) । २ चलने वाला, गमन शील (श्रीप, कप्पू) ।
 चारिअ वि [चारित] १ जिसको खिलाया गया हो वह (से २, २७) । २ विज्ञापित, जताया हुआ (परह १७—पत्र ४६७) ।
 चारिअ पु [चारिक] १ चर पुरुष, जासूस (परह १, २, पउम २६, ६५), 'चोरुत्ति चोरित्ति य होइ जओ परदारगामित्ति' (विसे २३७३) । २ पचायत का मुखिया पुरुष, समुदाय का अगुआ (स ४०६) ।
 चारित्त देखो चरित्त = चारिन् (श्लोक ६ भा, उप ६७७ टी) ।
 चारित्ति देखो चरित्ति (मुफ्फ १५७) ।
 चारियन्व देखो चर = चर् ।
 चारिया छी [चर्या] १ आचरण, इधर-उधर गमन, जीविका । २ चेष्टा (उत्त १६, ८१, ८२, ८४, ८५) ।
 चारी छी [चारी] देखो चारि = चारि (स ४८७, श्लोक २३८ टी) ।
 चारु वि [चारु] १ सुन्दर, शोभन, प्रवर (उवा, श्रीप) । २ पु तीसरे जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम १५२) । ३ न प्रहरण-विशेष, राज-विशेष (जीव १, राय) ।
 चारुणय पु [चारुणिक] १ देश-विशेष । २ वि उस देश का निवासी (श्रीप, अत) । छी °णिया (श्रीप) ।

चारुणय पु [चारुणिक] ऊपर देखो (श्रीप) ।
 छी °णिया (श्रीप, राया १, १) ।
 चारुवाच्छ पु व [चारुवत्सि] देश-विशेष (पउम ६८, ६४) ।
 चारुसेणी छी [चारुसेनी] छन्द-विशेष (पिंग) ।
 चाल सक [चाल्यु] १ चलाना, हिलाना, कँपाना । २ विनाश करना । चालेइ (उव, स ४७४, महा) । कर्म चालिज्जइ (उव) । वक्क चालत, चालेमाण (सुपा २२४, जीव ३) । कवक्क चालिज्जमाण (राया १, १) । हेक्क चालित्तप (उवा) ।
 चालण न [चालन] १ चलाना, हिलाना (रभा) । २ विचार (विसे १००७) ।
 चालण न [चालन] शका, प्रश्न, पूर्वपक्ष (चेइय २७१) ।
 चालणा छी [चालना] शका, पूर्वपक्ष, आक्षेप (अणु, बृह १) ।
 चालणिया छी [चालनिका] नीचे देखो (उप १३४ टी) ।
 चालणी छी [चालनी] आखा, छानने का पात्र चलनी या छलनी (श्रावम) ।
 चालवास पु [दे] सिर का भूषण-विशेष (दे ३, ८) ।
 चालिय वि [चालित] चलाया हुआ, हिलाया हुआ, 'पुष्कवईए चालियाए सियसकेयपडागाए' (महा) ।
 चालिर वि [चालियिट्ट] १ चलानेवाला । २ चलनेवाला, 'खरपवराचाडुचालिरदवगिस-रिसेण पेम्मेण' (वज्जा ७०) ।
 चाली छी [चत्वारिंशत्] चालीस, ४० (उवा) ।
 चालीस छीन [चत्वारिंशत्] चालीस, ४० (महा, पिंग) छी. °सा (ति ५) ।
 चालुक्क पुछी [चौलुक्य] १ चालुक्य वंश में उत्पन्न । २ पु गुजरात का प्रसिद्ध राजा कुमारपाल (कुमा) ।
 चाव सक [चर्व] चबाना । कृ चावयन्व (उत्त १६, ३८) ।
 चाव पु [चाप] धनुष, कामुक (स्वप्न ५५) ।
 चावल न [चापल] चपलता, चंचलता (अभि २४१) ।

चावल न [चापल्य] ऊपर देखो (स ५२६) ।
 चावाली छी [चावाली] ग्राम विशेष, इस नाम का एक गाँव (श्रावम) ।
 चाविय वि [चर्वित] चबाया हुआ (धर्मवि ४६, १४६) ।
 चाविय वि [च्यावित] मरवाया हुआ (परह २, १) ।
 चावेडी छी [चापेटी] विद्या-विशेष, जिसमें दूसरे को तमाचा मारने पर बीमार श्रावमों का रोग चला जाता है (वव ५) ।
 चावेयन्व देखो चाव = चर्व ।
 चावोण्णय न [चापोन्नत] विमान-त्रिरेप, एक देव-विमान (सम ३६) ।
 चास पु [चाप] पक्षि-विशेष, स्वर्ण-चातक, पपीहा, लहटोरवा (परह १, १, परह १७, राया १, १, श्लोक ८४ भा, उर १, १४) ।
 चास पु [दे] चास, हन-विदारित भूमि रेखा, खेती (दे ३, १) ।
 चाह सक [वाञ्छ] १ चाहना, वाछना । २ अपेक्षा करना । ३ याचना । चाहइ, चाहसि (भवि, पिंग) ।
 चाहिणी छी [चाहिनी] हेमाचार्य की माता का नाम (कुप्र २०) ।
 चाहिय वि [वाञ्छित] १ वाञ्छित, अभिलषित । २ अपेक्षित । ३ याचित (भवि) ।
 चाहुआग पु [चाहुयान] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश, चौहान वंश । २ पुछी. चौहान वंश में उत्पन्न (सुपा ५५६) ।
 चि देखो चिण । कर्म चिच्चइ, चिम्मइ, चिज्जति (हे ४, २४३, भग) ।
 चिअ अ [एव] निश्चय को बतलानेवाला अव्यय, 'अणुबद्ध त चिअ कामिणीण' (हे २, १८४, कुमा; गा १६, ४६, दं १) ।
 चिअ अ [इव] १—२ उपमा और उपप्रेक्षा का सूचक अव्यय (प्राप्र) ।
 चिअ वि [चित] १ झकड़ा किया हुआ (भग) । २ व्याप्त (सुपा २४१) । ३ पुष्ट, मासल (उप ८७५ टी) ।
 चिअ न [चित] इंट आदि का ढेर (अणु १५४) ।
 चिअ देखो चित्त = चित्त प्राकृ २६) ।

छिच्छिकार पुं [छिच्छिकार] निवारण-सूचक
या घृणा सूचक शब्द, छि, छि (पिड ४५१)।
छिछि अ [दे धिक्धिक्] छि छि, धिक्-
धिक्, अनेक धिक्कार (हे २, १७४, पड)।
छिज्ज देखो छिद = छिद। हेक्क छिज्जिउ
(तडु)।
छिज्ज वि [छेच] १ खरिडत किया जा सके।
२ छेदने योग्य (सूत्र २, ५)। ३ न छेद,
विच्छेद, द्विधाकरण, 'पावति वधवहरोहछिज्ज-
मरणावसायाइ' (शोध ४६ भा, पुष्प
१८६)।
छिज्जत वि [क्षीयमाण] क्षय पाता, दुर्बल
होता; 'छिज्जतेहि अरुणदिएण, पच्चक्खम्मि वि
लुमम्मि अणेहि' (गा ३४७)।
छिज्जत } देखो छिद
छिज्जमाण }
छिड्डु न [छिद्र] १ छिद्र, विवर (पउम २०,
१६२, अनु ६, उप पु १३८)। २ अवकारा,
अवसर (परह १, ३)। ३ दूषण, दोष (सुपा
३६०)। ४ पाणि पु [पाणि] एक प्रकार
का जैन साधु (आचा २, १, ३)।
छिड्डु पुन [छिद्र] आकारा, गगन (भग २०
२—पत्र ७७५)।
छिण्ण देखो छिन्न (गाथा १, १८, सूत्र
१, ८)।
छिण्ण पु [दे] जार, उपपत्ति (दे ३, २७,
पड)।
छिण्णच्छोडण न [दे] शीघ्र, तुरन्त, जल्दी
(दे ३, २६)।
छिण्णयड वि [दे] टक से छिन्न (पात्र)।
छिण्णा स्त्री [दे] असती, कुलटा (दे ३, २७)।
छिण्णाल पु [दे] जार, यार, उपपत्ति, छिनाला
या छिनरा (दे ३, २७, पड)।
छिण्णालिआ } स्त्री [दे] असती, कुलटा
छिण्णाली } पुरचत्ती, छिनारी, छिनाल,
व्यभिचारिणी। (सुच्छ ५५, दे ३, २७)।
छिण्णोवमवा स्त्री [दे] दुर्वा, दूब (घास),
वाम (दे ३, २६)।
छित्त देखो चित्त = क्षेत्र (श्रीप, उप ८३३
टी, हेका ३०)।
छित्त वि [दे] स्पष्ट, झूझा हुआ (दे ३, २७,
गा १३, सुपा ५०४, पात्र)।

छित्तर [दे] देखो छेत्तर (स ८, २२३,
उप पु ११७, ५३० टी)।
छित्ति स्त्री [छित्ति] छेद, विच्छेद, खरडन
(विसे १४५८, लहुम ५)।
छित्तु वि [छेत्] छेदनेवाला (पव १)।
छिद देखो छिड्डु (गाथा १, २, ठा ५, १,
पउम ६४, ६)।
छिद पु [दे] छोटी मछली (दे ३, २६)।
छिदिय वि [छिद्रित] छिद्र-युक्त, छिद्रवाला
(गउड)।
छिन्न वि [छिन्न] १ खरिडत, वृष्टि, छेद-युक्त
(भग. प्रासू १४६)। २ निर्धारित, निश्चित
(वृह १)। ३ न छेद, खरडन (उत्त १५)।
४ ग्गथ वि [ग्गथ] स्नेह-रहित, स्नेह-मुक्त
(परह २, ५)। ५ पु त्यागी, साधु मुनि,
निर्ग्रन्थ (ठा ६)। ६ च्छेय पु [च्छेद] नय-
विशेष, प्रत्येक सूत्र को दूसरे सूत्र की अपेक्षा
से रहित माननेवाला मत (एदि)। ७ द्वाणतर
वि [ध्वान्तर] मार्ग-विशेष, जहाँ गाँव,
नगर वगैरह कुछ भी न हो ऐसा रास्ता (वृह
१)। ८ मडव वि [मडव] जिस गाँव या
शहर के समीप से दूसरा गाँव वगैरह न हो
(निचू १०)। ९ रुह वि [रुह] काट कर
बोने पर भी पैदा होनेवाली वनस्पति (जीव
१०, परण ३६)।
छिन्नाल वि [दे] हल की जात का बेल आदि
(उत्त २७, ७)।
छिन्नालिगा } स्त्री [दे] स्थलचर पक्षि-विशेष
छिण्णालिगा } (अग वि अ० ५८)। देखो
छिण्णालिआ।
छिप्प न [क्षिप्र] जल्दी, शीघ्र। १ तूर न
[तूर्य] शीघ्र। २ बजाया जाता एक बाजा,
तुरही (विपा १, ३, गाथा १, १८)।
छिप्प न [दे] १ शिक्षा, भीख (दे ३, ३६,
सुपा ११५)। २ पुच्छ, लालून (दे ३, ३६,
पात्र)।
छिप्पत देखो छिप = स्थूय।
छिप्पती स्त्री [दे] १ व्रत-विशेष। २ उत्सव-
विशेष (दे ३, ३७)।
छिप्पंदूर न [दे] १ गोमय खरड, गोवर-
खरड। २ विषम, कठिन (दे ३, ३८)।

छिप्पाल पुं [दे] सत्यासक्त बैल, खाने में लय
हुआ बैल (दे ३, २८)।
छिप्पालुअ न [दे] पूँछ, लालून (दे ३,
२६)।
छिप्पिडी स्त्री [दे] व्रत-विशेष। २ उत्सव
विशेष। ३ पिष्ट, पिसान (दे ३, ३७)।
छिप्पिअ वि [दे] क्षरित, भरा हुआ, टपका
हुआ (पात्र)।
छिप्पीर न [दे] पलाल, पुमाल, वृण (दे ३,
२८)।
छिप्पोही स्त्री [दे] अजादि की विद्या (निचू १)।
छिप्पम सक [क्षिप्] फेंकना। छिप्पति
(सूत्र १, ५, २, १२)।
छिमिछिमिछिमि अक [छिमिछिमिपा] 'छिम-
छिम' आवाज करना। वक्क, छिमि
छिमिछिमत (परम २६, ४८)।
छिरा स्त्री [शिरा] नस, नाडी, रा (ठा २,
१, हे १, २६६)।
छिरि पु [दे] भालू की आवाज (पउम ६४,
४५)।
छिल्ल न [दे] १ छिद्र, विवर (दे ३, २५,
पड)। २ कुटी, कुटिया, छोटा घर। ३
वाड का छिद्र (दे ३, ३५)। ४ पलार का
पेड (तो ६)।
छिल्लर न [दे] पल्लव, छोटा तलाव (दे ३,
२८, सुर ४, २२६)।
छिल्लर वि [दे] असार, छिछर, खालर।
छिल्ली स्त्री [दे] शिखा, चोटी (दे ३, २७)।
छिप सक [स्पृश] स्पर्श करना, झूना।
छिपइ (हे ४, १८२)। कर्म छिपइ, छिपि
जइ (हे ४, २५७)। वक्क छिपत (गा
२६६)। कवक छिपत, छिपिज्जमाण
(कुमा. गा ४४३, स ६३२, या १२)।
छिपट्ट [दे] देखो छेचट्ट (कम्म २, ४)।
छिचण न [स्पर्शन] स्पर्श, झूना (उप १८७
टी, ६७७)।
छिवा स्त्री [दे] श्लक्ष्ण कप, चीकना चटुई,
'छिवापहारे य' (गाथा १, २—पत्र ८६,
परह १, ३, विपा १, ६)।
छिवाडिआ } स्त्री [दे] १ वस्त्र वगैरह की
छिवाडी } फली, सीम या सेम (ज १)। २
पुस्तक-विशेष, पतले पन्नेवाली जैसी पुस्तक,

चिक्क वि [दे] १ स्तोक, थोडा, अल्प । २ न. क्षुत्, छोक (षड्) ।

चिक्कण वि [चिक्कण] चिकना, स्निग्ध (पह १, १, सुपा ११) । २ निविड, घना, 'जं पाव चिक्कण तए वड्ड' (सुर १४, २०६) । ३ कुम्वे, दु ख से छूटने योग्य (पह १, १) ।

चिक्का स्त्री [दे] १ थोड़ी चीज । २ हलकी मेघ वृष्टि, सूक्ष्म छोटा (दे ३, २१) ।

चिक्कार पु [चीरकार] चिल्लाहट, चिघाड (सण) ।

चिक्किण देखो चिक्कण (कुमा) ।

चिक्कअण वि [दे] सहिष्णु, सहन करने वाला (षड्) ।

चिक्कखल पु [दे] कदम, पक, कीच (दे ३, ११, हे ३, १४२, पह १, १) ।

चिक्कखल्लय न [चिक्कखल्लक] काठियावाड का एक नगर (ती २) ।

चिक्किल्ल [दे] देखो चिक्कखल्ल (गा ६७, चिपल्ल ३२४, ४४५, ६८४, औप) ।

चिगिचिगाय अक [चिक्किकाय] चक-चकाट करना, चमकना । वक्क चिगिचिगायत (सुर २, ८६) ।

चिगिच्छण देखो चिइच्छअ (विने ३०) ।

चिगिच्छण न [चिकित्सन] चिकित्सा, इलाज (उप १३५ टी) ।

चिगिच्छय देखो चिइच्छअ (स २७८, णाया १, ५—पत्र १११) ।

चिगिच्छा स्त्री [चिकित्सा] दवा, प्रतीकार, इलाज (स १७) । 'सहिया स्त्री [सहिता] चिकित्सा-शास्त्र, वैद्यक-शास्त्र (स १७) ।

चिच्च वि [दे] १ चिपटी नामिकावाला, वैठी हुई नाकवाला (दे ३, ६) । २ न रमण, सभोग, रति (दे ३, १०) ।

चिच्च वि [त्याज्य] छोड़ने योग्य, परिहरणोय, 'खरकम्माइ पि चिच्चाइ' (सुपा ४६८) ।

चिच्चर वि [दे] चिपटी नामिकावाला (दे ३, ६) ।

चिच्चा देखो चय = त्यज् ।

चिच्चि पु [चिच्चि] चीत्कार, चिल्लाहट, भयकर आवाज; 'चिच्चिसर—' (विपा १, २—पत्र २६) ।

चिच्चि पुं [दे] हुताशन, अग्नि (दे ३, १०) । चिच्चि अ [दे] अत्यन्त, अतिशय (आचा १, ४, २, २) ।

चिच्च अक [स्था] बैठना, स्थिति करना ।

चिच्चइ (हे १, १६) । भुक्का चिच्चिसु (आचा) ।

वक्क चिच्चत, चिच्चमाण (कुमा, भग) ।

सक्क चिच्चिच्च, चिच्चिऊण, चिच्चिण, चिच्चिन्ता, चिच्चित्ताण (कप्प, हे ४, १६, राज, पि) । हेक्क चिच्चित्तए (कप्प) । कृ चिच्चिणिज्ज, चिच्चिअन्व (उप २६४ टी, भग) ।

चिच्च देखो चेच्च । वक्क चिच्चमाण (पचा २) ।

चिच्चइत्तु वि [स्थात्] बैठनेवाला, ठहरनेवाला (भग ११, ११, दसा ३) ।

चिच्चण न [स्थान] खडा रहना (पव २) ।

चिच्चण न [चेष्टन] चेष्टा, प्रयत्न (हि २२) ।

चिच्चणा स्त्री [स्थान] स्थिति, बैठना, अवस्थान (वृह ६) ।

चिच्चो देखो चेच्चो (सुर ४, २४५, प्रासू १२५) ।

चिच्चिय वि [चेष्टित] १ जिसने चेष्टा की हो वह (पह १, ३, णाया १, १) । २ न चेष्टा, प्रयत्न, (पह २, ४) ।

चिच्चिय वि [स्थित] १ अवस्थित, रहा हुआ । २ न अवस्थान, स्थिति (चद २०) ।

चिच्चिग पु [चिटिक] पक्षि-विशेष (पह १, १) ।

चिच्च सक [चि] १ इकट्ठा करना । २ फूल वगैरह तोड़कर इकट्ठा करना । चिच्चइ (हे ४, २३८) । भुक्का चिच्चिसु (भग) । भवि चिच्चिहिइ (हे ४, २४३) । कर्म चिच्चिज्जइ (हे ४, २४२) । संक्क. चिच्चिऊण, चिच्चिऊण (षड्) ।

चिच्च देखो चण (आ १८) ।

चिच्च देखो चित्त (प्राक्क २६) ।

चिच्चिअ वि [चित] इकट्ठा किया हुआ (सुपा ३२३, कुमा) ।

चिच्चोटी स्त्री [दे] गुजा, घुँघची, लाल रती, गुजराती मे 'चणोठी' (दे ३, १२) ।

चिच्चण वि [चीर्ण] १ आचरित, अनुष्ठित (उत्त १३) । २ अगोष्ठत, आहत (उत्त ३१) । ३ विहित, कृत (उत्त १३) ।

चिच्च न [चिच्च] निशानी, लाइन (हे २, ५०, गउड) ।

चित्त सक [चित्रय्] चित्र बनाना, तमवीर खीचना । चित्तेइ (महा) । कवक्क चित्तिज्जत (उप पृ ३४१) ।

चित्त न [चित्त] १ मन, अन्त करण, हृदय (ठा ४, १, प्रासू ६१, १५५) । २ ज्ञान, चेतना (प्राचा) । ३ बुद्धि, मति (अव ४) । ४ अभिप्राय, आशय (आचा) । ५ उपयोग, ख्याल (अणु) । °णु वि [°ज्] दिल का जानकार (उप पृ १७६) । °निवाइ वि [°निपातिन्] अभिप्राय के अनुसार बरतने-वाला (आचा) । °मत वि [°वत्] सजीव वस्तु (सम ३६, आचा) ।

चित्त देखो चइत्त = चैत्र (रभा, ज २, कप्प) ।

चित्त न [चित्र] १ छवि, आलेख्य, तमवीर (सुर १, ८६, स्वप्न १३१) । २ आश्चर्य, विस्मय (उत्त १३) । ३ काष्ठ-विशेष (अनु ५) । ४ वि विलक्षण, विचित्र (गा ६१२, प्रासू ४२) । ५ अनेक प्रकार का, विविध, नानाविध (ठा १०) । ६ अद्भुत, आश्चर्य-जनक (विपा १, ६, कप्प) । ७ कबरा, चितकबरा (णाया १, ८) । ८ पु एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७) । ९ पर्वत-विशेष (पह १, ५—पत्र ६४) । १० चित्रक, चीता, श्वापद विशेष (णाया १, १—पत्र ६५) । ११ नक्षत्र-विशेष, चित्रा नक्षत्र, 'हृत्यो चित्तो य तथा, दस बुद्धिकराइ नाएस्स' (सम १७) । 'उत्त पु [°गुप्त] भरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । °कणगा स्त्री [°कनका] देवी-विशेष, एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा ४, १) । °कम्म न [°कर्मन्] आलेख्य, छवि, तसवीर (गा ६१२) । °कर देखो °गर (अणु) । °कह वि [°कथ] नाना प्रकार की कथाएँ कहने-वाला (उत्त ३) । °कूड पु [°कूट] १ सीतानदी के उत्तर किनारे पर स्थित एक वक्षस्कार-पर्वत (ज ४) । २ पर्वत-विशेष (पउम ३३, ६) । ३ न नगर-विशेष, जो आजकल मेवाड में 'चित्तौड' नाम से प्रसिद्ध है (रयाए ६४) । ४ शिखर-विशेष (ठा २, ३) । °कखरा स्त्री [°क्षरा] छन्द-विशेष

छुरी ली [छुरी] छुरी, चाकू (दे २, ४, प्रासू ६५) ।

छुल देखो छुड्ड (सुपा १५६) ।

छुल्लुल्लुल्ल देखो चुल्लुचल्लुल्ल । छुल्लु-
चल्लुलेइ (सुप्रति ६६ टी) ।

छुव सक [छुप्] स्पर्श करना छूना ।
कर्म, छुपइ, छुविज्जइ (हे ४, २४६) ।
कवक छुप्पत (उप ३३६, ७२८ टी) ।

छुह सक [क्षिप्] फेंकना, डालना । छुहइ
(उव, हे ४, १४३) । सक छोट्टण, छोट्टण
(स ८५, विसे ३०१) ।

छुहा ली [सुधा] १ अमृत, पीयूष (हे १,
२६५ कुमा) । २ खडी, मकान पोतने का
स्वत द्रव्य-विशेष, चूना (दे १, ७८, कुमा) ।
°अर पु [°कर] चन्द्र, चन्द्रमा (पड्) ।

छुहा ली [छुध्] सुधा, मूख, बुभुक्षा (हे
१, १७, दे २, ४२) ।

छुहाइअ वि [क्षुधित] मूखा, बुभुक्षित
(पाम्) ।

छुहाउल वि [क्षुदाकुल] ऊपर देखो (गा
५८१) ।

छुहालु वि [क्षुधालु] ऊपर देखो (उप पृ
१६०, १५० टी) ।

छुहिअ वि [क्षुधित] ऊपर देखो (उव, उप
७२८ टी, प्रासू १८०) ।

छुहिअ वि [दे] लिप्त, पोता हुआ (दे ३,
३०) ।

छुह वि [क्षिप्त] क्षिप्त, प्रेरित (हे २, ६२,
१२७, कुमा) ।

छुहिअ न [दे] पारव का परिवर्तन (पड्) ।

छेअ सक [छेदय] १ छिन्न करना ।
२ तोडवाना, छेदवाना । कर्म छेइज्जति
(पि ५४३) । सक छेएत्ता (महा) ।

छेअ पु [दे] १ अन्त, प्रान्त, पर्यन्त (दे ३,
३८, पाम्, से ७, ४८, कम्म १, ३६) ।
२ देवर, पति का छोटा भाई (दे ३, ३८) ।
३ एक देश, एक भाग (से १, ७) । ४
निविभाग अश (कम्म ४, ८२) ।

छेअ वि [छेक] निपुण, चतुर, हुरियार
(पाम्, प्रासू १७२, औप, राया १, १) ।
°थरिय पुं [°ाचार्य] शिल्पाचार्य, कलाचार्य
(भग ७, ९) ।

छेअ वि [दे छेक] १ विशुद्ध, निर्मल (पंचा
३, ३५, ३८) । २ न कालोचित हित (धर्म-
स ५४३) ।

छेअ पुं [छेद] १ नाश, विनाश, 'विज्जाल्छेओ
कओ भद्' (सुर ५, १६४) । २ खण्ड,
विभाग (से १, ७) । ३ छेदन, कर्तन,
'जीहाछेअ' (गा १५३, से ७, ४८) । ४
छ जैन आगम-ग्रन्थ, वे ये हैं—निशोयसूत्र,
महानिशीयसूत्र, दशा-श्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प,
व्यवहारसूत्र, पञ्चकल्पसूत्र (विसे २२६५) ।
५ छिन्न विभाग, अलग किया हुआ अश (से
७, ४८) । ६ कमी न्यूनता (पचा १६) ।
७ प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ४, १) । ८ शुद्धि-
परीक्षा का एक अंग, धर्म-शुद्धि जानने का
एक लक्षण, निर्दोष वाह्य आचरण, 'सो
छेएण सुद्धोत्ति' (पचव ३) । °रिह न
[°हि] प्रायश्चित्त विशेष (ठा १०) ।

छेअअ } वि [छेदक] छेदन करनेवाला,
छेअग } काटनेवाला (नाट, विसे ५१३) ।

छेअण न [छेदन] १ खण्डन, कर्तन, द्विधा
करण (सम ३६, प्रासू १४०) । २ कमी
न्यूनता, हास (आचा) । ३ शक, हथियार
(सुप्र २, ३) । ४ निश्चयक वचन (बृह
१) । ५ सूक्ष्म अवयव (बृह १) । ६ जल-
जीव-विशेष (सुप्र २३) ।

छेओवट्टावण न [छेदोपस्थापनीय] जैन
सयम विशेष, बडी दीक्षा (नव २६, पचा
११) ।

छेओवट्टावणिय न [छेदोपस्थापनीय]
ऊपर देखो (सक) ।

छेँछेई [दे] देखो छिँछेई (गा ३०१) ।

छेँड [दे] देखो छिँड (दे ३, ३५) ।

छेँडा ली [दे] १ शिखा, चोटी । २ नव-
मालिका, लता-विशेष (दे ३, ३६) ।

छेँडी ली [दे] छोटी गली, छोटा रास्ता (दे
३, ३१) ।

छेग देखो छेअ = छेक (दे ३, ४७) ।

छेज्ज देखो छिज्ज (दसन २, महा) ।

छेज्जा ली [छेद्या] छेदन-क्रिया (सुप्र १, ४) ।

छेण पु [दे] स्तेन, चोर (पड्) ।

छेत्त देखो खेत्त (गा ९, उप ३५७ टी, स
१६४, भवि) ।

छेत्तर न [दे] सूप वगैरह पुराना गृहोपकरण
(दे ३, ३२) ।

छेत्तसोवणय न [दे] खेत में जामना (दे
३, ३२) ।

छेत्तु वि [छेत्] छेदनेवाला, काटनेवाला
(आचा) ।

छेद देखो छेअ = छेदय । कर्म छेदीयति (पि
५४३) । सक छेदिअण, छेदेत्ता (पि
५८६, भग) ।

छेद देखो छेअ = छेद (पउम ४४, ६७,
औप, वव १) ।

छेदअ वि [छेदक] छेदनेवाला (पि २३३) ।

छेदण वि [छेदन] छेदन-कर्ता । ली °णी
(स ७६६) ।

छेदोवट्टावणिय देखो छेओवट्टावणिय (अ
३, ४) ।

छेध पु [दे] १ स्थासक, चन्दनादि सुगन्धि
वस्तु का विलेपन । २ चोर, चोरी करनेवाला
(दे ३, ३६) ।

छेप्प न [दे शोप] पुच्छ, लाङ्गूल, पूँछ (गा
६२, विपा १, २, गउड) ।

छेभय पुं [दे] चन्दन आदि का विलेपन,
स्थासक (दे ३, ३२) ।

छेल पुञ्जी [दे] अण, छाग, वकरा (दि
छेल्ला } ३, ३२, स १५०) । ली °ल्लिआ,
छेल्य } °ली (पि २३१, पएह १, १—
पत्र १४) ।

छेलावण न [दे] १ उत्कृष्ट हर्षध्वनि । २
वाल क्रीडन । ३ चीत्कार, ध्वनि विशेष,
'छेलावणमुक्किट्टाह वालकीलावण च संटाद'
(आवम) ।

छेलिय न [दे] सेरिटत, नाक छोकने का
शब्द, अव्यक्त ध्वनि-विशेष (पएह १, ३,
विसे ५०१) ।

छेली ली [दे] थोडे फूलवाली माला (दे
३, ३१) ।

छेवग न [दे] महामारी या मारी वगैरह
फेली हुई बीमारी (वव ५, निह १) ।

छेवट्ट न [दे. सेवार्त्त, छेदवृत्त] १
छेवट्ट } सहनन-विशेष, शरीर रचना-विशेष,
जिसमें मर्कट-बन्ध, वेडन श्रीर लीला न होकर
यों ही हड्डियाँ आपस में जुडी हों ऐसी

चिर—चिबिड

लम्बा आयुष्यवाला, दीर्घ काल तक रहनेवाला (मग. सूत्र १, ५, १), 'एयाई फासाई फुसति बाल, निरतरं तल्य चिरट्टिईय' (सूत्र १, ५, २)। 'राअ पु [रात्र] बहु काल, दीर्घ काल (आचा)।

चिर अक [चिरय्] १ विलम्ब करना। २ आलस करना। निरअदि (शौ) (पि ४६०)।

चिर अ [चिरम्] दीर्घ काल तक, अनेक समय तक (स्वप्न २६, जी ४६)। 'तण वि [तन] पुराना, बहुत काल का (महा)। चिराअय वि [चिरचित] निरकाल से उप-जित—इकट्ठा किया हुआ या बढा हुआ (पच ५, १६७)।

चिरडी छो [दे] वर्ण-माला, अक्षरावली, 'निराईपि अयाणता लोआ लोएहिं गोरवन्म-हिआ' (दे १, ६१)।

चिराडुहिह्ल [दे] देखो चिरिडुहिह्ल (पात्र)।

चिरमाल सक [प्रति + पालय्] परिपालन करना। चिरमालइ (प्राक् ७५)।

चिरया छो [दे] कुटी-भोपडो (दे १, ११)।

चिरस अ [चिरस्य] बहुत काल तक (उत्तर १७६, कुमा)।

चिराअ देखो चिर = चिरय्। चिरायइ (स १२६)। निराअसि (मै६२)। भवि निराअस (गा २०)। बक चिराअमाण (नाट—मालती २७)।

चिराअय वि [चिरादिक] पुराना, प्राचीन (गाया १, १, औप)।

चिराअय वि [चिरातीत] पुराना, प्राचीन (विपा १, १)।

चिराअ अ [चिरात्] चिर काल से, लम्बे समय से (कुप्र ३६७)।

चिराणय (अप) वि [चिरन्तन] पुरातन, पुराना, प्राचीन (भवि)।

चिरादण वि [चिरन्तन] ऊपर देखो (बृह ३)।

चिरा अक [चिरय्] १ विलम्ब करना। २ आलस करना। ३ सक विलम्ब कराना, रोक रखना निरावइ (भवि)। चिरावेह (काल), 'मा खे चिरावेहिं' (पउम ३, १२६)।

चिराविय वि [चिरायित] १ जिसने विलम्ब किया हो वह। २ विलम्बित, रोका गया। ३ न विलम्ब, देरी, 'भरिओ चवामाए कि अज चिराविय सामि' (पउम १०५, १०१)।

चिरिचिरा छो [दे] जलबारा, वृष्टि (दे ३, १३)।

चिरिका छो [दे] १ पानी भरने का चर्म-भाजन, मशक। २ अल्प वृष्टि। ३ प्रात काल, सुबह (दे ३, २१)।

चिरिचिरा [दे] देखो चिरिचिरा (दे ३, १३)।

चिरिडी देखो चिरडी (गा १६१ अ)।

चिरिडुहिह्ल न [दे] दधि, दही (दे ३, १४)।

चिरिहिटी छो [दे] गुञ्जा, घुगची, लाल रती (दे ३, १२)।

चिराअ पु [किरात] १ अनार्य देश-विशेष। २ किरात देश में रहनेवाली म्लेच्छ-जाति, भिल्ल, पुलिंद (हे १, १८३, २५४, परह १, १, औप, कुमा)। ३ घन सार्थवाह (व्यापारी) का एक दास—नौकर (गाया १, १८)।

चिराअया छो [किरातिका] किरात देश की रहनेवाली छो, किरातिन (गाया १, १)।

चिराई छो [किराती] ऊपर देखो (इक)। 'पुत्त पु [पुत्र] एक दासी-पुत्र और जैन-महर्षि (पडि, गाया १, १८)।

चिराद देखो चिराअ (प्राक् १२)।

चिलिचिलिआ छो [दे] धारा, वृष्टि (षड्)। चिलिचिलिय वि [दे] भोजा या भोगा हुआ, आद्रित, गीला (तदु ३८)।

चिलिचिलि वि [दे] आद्रं, गीला (परह चिलिचिलि १, ३—पत्र ४५, दे ३, चिलिचिलि १२)।

चिलिण [दे] देखो चिलीण, 'छक्कायसजमम्मि अ चिलिणे सेहन्नाभावो' (ओष १६५)।

चिलिमिणी } छो [दे] यवनिका, परदा,
चिलिमिलिगा } आच्छादन-पट (ओष भा,
चिलिमिलिया } सूत्र २, २, ४८, कस,
चिलिमिली } ओष ७८, ८०)।

चिलीण न [दे] अशुचि, मैला, मल-भूत्र, 'सजति विलीणे मच्छिआओ षण्णदण मोत्तु' (उप १०३१ टी)।

चिल्ल पु [दे] १ बाल, बच्चा, लडका (दे ३, १०)। २ चेला, शिष्य (आवम)।

चिल्ल पु [चिल्ल] १ बृहत्-विशेष (राज)। २ न पुष्य-विशेष।

'पुय कुणति देवा, कचणकुपुमेपु जिणवरिदाण। इह पुण चिल्लदलेसु, नरेण पूया विरइयव्वा ॥' (पउम ६६, १६)।

चिल्ल न [दे] सूर्य, सूप, छाज (प्राक् २८)।

चिल्लअ न [दे] देदोप्यमान, चमकता, 'मठ-गोडुणप्यगारएहिं केहिं केहिंवि अचगतिलय-पत्तवेहनामएहिं चिल्लएहिं' (अजि २८, ओप)।

चिल्लग [दे] देखो चिल्लिय (परह १, ४—पत्र ७१ टी)।

चिल्लड [दे] देखो चिल्ल (दे) (आचा २, ३, ३)।

चिल्लणा छो [चिल्लणा] एक सती छो, राजा श्रेणिक की पत्नी (पडि)।

चिल्लय न [दे] अपचक्षु, खराब आँख (परह १, १ टी—पत्र २५)।

चिल्ल पु [चित्त्वल] १ अनार्य देश विशेष। २ उस देश का निवासी (इक)।

चिल्ल पुत्री [दे] १ श्रापद पशु-विशेष, चीता (परह १, १—पत्र ७, गाया १, १—पत्र ६५)। छो 'लिया (परह ११)। न, काँदोवाला जलाशय, छोटा तलाव आदि (गाया १, १—पत्र ६३)। ३ देदोप्यमान, चमकता (गाया १, १६—पत्र २११)।

चिल्ला छो [दे] चील, पक्षि-विशेष, शकुनिका (दे ३, ६, ८, ८, पात्र)।

चिल्लिय वि [दे] १ लोन, आसक्त (गाया १, १)। २ देदोप्यमान (गाया १, १, औप, कण)।

चिल्लिरि पु [दे] मशक, मच्छर, क्षुद्र जन्तु-विशेष (दे ३, ११)।

चिल्लूर न [दे] घुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं (दे ३, ११)।

चिल्लय पु [दे] चक्र-मार्ग, पहिये की लकीर, गुजराती में 'चीलो' (सुपा २८०)।

चिबिट्टु } वि [चिपिट] चिपटा, बैठा या
चिबिड } धँसा हुआ (नाक), 'चिबिडनासा' (पि २४८, पउम २७, ३२, गडड)।

चिबिडा छो [चिपिटा] गन्ध द्रव्य-विशेष (दे ३, ७१)।

चिबिड देखो चिबिड (सुर १३, १८१)।

विपा १, १) । °वि अ [°अपि] जो भी (महा) ।
 जइ अ [यत्र] जहाँ, जिस स्थान मे (षड्) ।
 जइ वि [जयिन्] जीतनेवाला, विजयी (कुमा) ।
 जइअत्र वि [जेतव्य] जीतने योग्य (प्रवि १२) ।
 जइआ अ [यदा] जिस समय, जिस वक्त (उव, हे ३, ६५) ।
 जइच्छा स्त्री [यदृच्छा] १ स्वतन्त्रता । २ स्वेच्छाचार (राज) ।
 जइण वि [जैन] १ जिन-देव का भक्त, जिन-धर्मी । २ जिन भगवान् का, जिन-देव से संबन्ध रखनेवाला (विसे ३८३, धम्म ६ टी, सुर ८, ६४) । स्त्री °णी (पचा ३) ।
 जइण वि [जयिन्] जीतनेवाला, 'मरणपवण-जइणवेग' (उवा, गाथा १, १—पत्र ३१) ।
 जइण वि [जविन्] वेगवला, वेग-युक्त, ध्वरा-युक्त, 'उवइयउपइयचवलजइणसिन्धवे-गाहि' (श्रौप) ।
 जइत्त वि [जैत्र] १ जीतनेवाला, विजयी (ठा ६) । २ पुं तृप-विशेष (रभा) ।
 जइत्ता देखो जय = जि ।
 जइय वि [जयिक] जयावह, विजयी (णाया १, ८—पत्र १३३) ।
 जइय वि [यष्ट] याग करनेवाला, 'तुम्हे जइया जन्नाए' (उत्त २५, ३८) ।
 जययत्र देखो जय = यत् ।
 जइवा अ [यदि वा] अथवा, या (वव १) ।
 जइस (अप) वि [यादृश] जैसा, जिस तरह का (षड्) ।
 जउ न [जउ] लाक्षा, लाख, लाह (ठा ४, ४, उप ५ २४) ।
 जउ पु [यदु] १ स्वनाम-ख्यात एक राजा । २ सुप्रसिद्ध क्षत्रिय वंश (उव) । °णदण पु [°नन्दन] १ यदुवंशीय, यदुवंश मे उत्पन्न । २ श्रीकृष्ण (उव) ।
 जउ पुं [यजुष्] वेद-विशेष, यजुर्वेद (अणु) ।
 जउण पुं [यमुन] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (उप ४५७) ।

जउण स्त्री [यमुना] भारत की एक जैउण° प्रसिद्ध नदी, जमुना (ठा १, २, हे जैउणा १, ४, १७८) ।
 जउणा देखो जैउणा (वजा १२२, प्राङ् ११) ।
 जओ अ [यत] १ क्योंकि, कारण कि, चूँकि (आ २८) । २ जिससे, जहाँ से (प्रासू ८२, १४८) ।
 ज अ [यत्] १ क्योंकि, कारण कि । २ वाक्यान्तर का संबन्ध-सूचक अव्यय (हि १, २४, महा, गा ६६) । °किंचि अ [°किञ्चित्] १ जो कुछ, जो कोई (पडि, परह १, ३) । २ असंबन्ध, अयुक्त, तुच्छ, नगण्य (पचव ४) ।
 जकयसुकय वि [दे] अल्प सुकृत से ग्राह्य, थोड़े उपकार से अधीन होनेवाला (दे ३, ४५) ।
 जंगम वि [जगम] १ चलनेवाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान मे जा सकता हो वह (ठा ६, भवि) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।
 जंगल पु [जङ्गल] १ देश विशेष, सपादलक्ष देश (कुमा, सत्त ६७ टी) । २ निर्जल प्रदेश (बृह १) । ३ न मास, 'गपकुभवियारिय-भोत्तिएहि ज जगल कियए' (वजा ४२) ।
 जंगा स्त्री [दे] गोचर-भूमि, पशुओं को चरने की जगह (दे ३, ४०) ।
 जगिअ वि [जाङ्गमिक] १ जगम वस्तु से संबन्ध रखनेवाला, जगम-संबन्धी । २ न जगम जीवों के रोम का बना हुआ कपडा (ठा ३, ३, ५ ३, कस) ।
 जगुलि स्त्री [जाङ्गुलि] विप उतारने का मन्त्र, विष-विद्या (तो ४५) ।
 जगुलिय पु [जाङ्गुलिक] गारुडिक, विषमन्त्र का जानकार, विषहरिया (पउम १०५, ५७) ।
 जगोल स्त्रीन [जाङ्गुल] विष-विघातक तन्त्र, विष-विद्या, आयुर्वेद का एक विभाग जिसमें विष की चिकित्सा का प्रतिपादन है (विपा १, ७—पत्र ७५) । स्त्री °ली (ठा ८) ।
 जघा स्त्री [जङ्घा] जाँघ, जानु के नीचे का भाग (आचा, कप्प) । °चर वि [°चर] पादचारी, पैर से चलनेवाला (अणु) । °चारण पुं [°चारण] एक प्रकार के जैन मुनि, जो अपने तपोव्रत से आकाश मे गमन कर सकते हैं (भग २०, ८, पव ६७) । °सतारिम वि

[सतार्थ] जाँघ तक पानीवाला जलाशय (आचा २, ३, २) ।
 जंघाच्छेअ पु [दे] चत्वर, चौक (दे ३, ४३) ।
 जघामय } वि [दे] जघाल, हुत गामी, व
 जघालुअ } से जानेवाला (दे ३, ४२, पद) ।
 जघाल वि [जङ्घाल] हुत-गामी (दे ८, ७८) ।
 जत सक [यन्त्र] १ वश करना, कावू में करना । २ जकडना, बाँधना (उप ५ १३१) ।
 जत न [यन्त्र] १ कल, युक्ति-पूर्वक शिल्प आदि कर्म करने के लिए पदार्थ-विशेष, तिल यन्त्र आदि (जीव ३, गा ५५४, पडि, मह, कुमा) । २ वशीकरण, रक्षा वगैरह के लिए किया जाता लेख प्रयोग (परह १, २) । ३ समयन, नियन्त्रण (राय) । °पत्थर पु [प्रस्तर] गोफण का पत्थर (परह १, २) । °पिल्लणकम्म न [°पीडनकम्मन्] यन्त्र द्वारा तिल, ईल आदि पीलने या परेनेका घा (पडि) । °पुरिस पु [°पुरुष] यन्त्र निर्मित पुरुष, यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करनेवाला पुतला (आवम) । °वाडचुल्ली स्त्री [°पाटचुल्ली] इक्षु-रस पकाने का चूल्हा (ठा ८—पत्र ४१७) । °हर न [°गृह] धारा गृह, पानी का फवारावाला स्थान (कुमा) ।
 जत देखो जा = या ।
 जंतण न [यन्त्रण] १ नियन्त्रण, संयमन, कावू । २ रोकनेवाला, प्रतिरोधक, (से ४, ४६) ।
 जतिअ पु [यान्त्रिक] यन्त्र-कर्म करनेवाला, कल चलानेवाला (गा ५५४) ।
 जतिअ वि [यन्त्रित] नियन्त्रित, जकडा हुआ (पउम ५३, १४५) ।
 जतु पु [जन्तु] जीव, प्राणी (उत्त ३, सण) ।
 जतुग न [जन्तुक] जलाशय मे होनेवाला तृण-विशेष (परह २, ३—पत्र १२३) ।
 जतुय वि [जान्तुक] जन्तुक नामक तृण का (आचा २, २, ३, १४) ।
 जप सक [जल्प] बोलना, कहना । जपद (प्राप्र) । बहू जपत, जपमाण (महा: गा १६८, सुर ४, २) । सङ्ग जपिकण, जपिकण, जपिय (प्राळ, महा) । हेङ्ग जपिउ (महा) । कृ जपिअव्व (गा २४२) ।

चुक् वि [भ्रष्ट] १ चुका हुआ, भूला हुआ, विस्तृत, 'चुक्कसकेआ', 'चुक्कविएअम्मि' (गा ३१८, १६५)। भ्रष्ट, वञ्चित, रहित, 'वसणमेत्तपसरणे चुक्का सि सुहाए बहुआए' (गा ४६५, चउ ३६, सुपा ८७)। ३ अन-वहित, वे-ख्याल (से १, ६)।

चुक् पु [दे] मुष्टि, मुट्टी (दे ३, १४)।

चुक्कार पु [दे] आवाज, शब्द (से १३, २५)।

चुक्कुड पुं [दे] छाग, बकरा, अज (दे ३, १६)।

चुक्क [दे] देखो चोक्क (सूक्त ४६)।

चुचुय } न [चूचुक] स्तन का अग्र भाग,
चुचुय } थन का वृन्त, चूची (परह १, ४, राय)।

चुचूय पुन [चूचुक] स्तन का अग्र भाग, स्तनो की गोलाई, चूची (राय ६४)।

चुच्छ वि [नुच्छ] १ अल्प, थोडा, हलका। २ हीन, जघन्य, नगण्य (हे १, २०४, पद्)।

चुज्ज न [दे] आश्चर्य (दे ३, १४, सट्टि ८३)।

चुडण न [दे] जीर्णता, सड़ जाना (शोध ३४६)।

चुडालअ न [दे] गुरु-वन्दन का एक दोष, रजोहरण को अज्ञात की तरह खडा रखकर वन्दन करना (गुमा २५)।

चुडली [दे] देखो चुडुली (पव २)।

चुडिली देखो चुडुली (तट्ट ४६)।

चुडुप्प न [दे] १ खाल उतारना (दे ३, ३)। २ धाव, क्षत (गउड)। ३ चमडी, त्वचा (पाम्)।

चुडुप्पा छी [दे] त्वचा, चमडी, खाल (दे ३, ३)।

चुडुली छी [दे] उल्का, अज्ञात, जलती हुई लकड़ी, उल्फुक (दे ३, १५, पाम्, सुर १३, १५६, स २४२)।

चुण सक [चि] चुनन, चुगना, पक्षियों का खाना। चुणइ (हे ४, २३८), 'काम्रो लिवो-हलि चुणइ' (सूक्त ८६)।

चुणअ पु [दे] १ चाण्डाल। २ बाल, बच्चा। ३ छन्द, इच्छा। ४ अर्घचि, भोजन की

अप्रीति। ५ व्यतिकर, सम्बन्ध। ६ वि अल्प, थोडा। ७ मुक्त, त्यक्त। ८ आघ्रात, सूँघा हुआ (दे ३, २२)।

चुणिअ वि [दे] विचारित, धारण किया हुआ (दे ३ १५)।

चुण्ण सक [चूर्णय] चूरना, टुकडा-टुकडा करना। संकु चुण्णिय (राज)।

चुण्ण पुन [चूर्ण] १ चूर्ण, चूर, बुकनी, बारीक खण्ड (बृह १, हे १, ८४, आचा)।

२ आटा, पिसान (आचा २, २, १)। ३ घूली, रज, रेणु (दे ३, १७)। ४ गन्ध द्रव्य का रज, बुकनी (भग ३, ७)। ५ चूना (हे १, ८४, विपा १, २)। ६ वशीकरणादि के लिए किया जाता द्रव्य-मिलान (गाया १, १४)। °कोसय न [°कोशक] भक्ष्य विशेष (परह २, ५)।

चुण्ण न [चूर्ण] पद विशेष, गम्भीरार्थक पद, महार्थक शब्द (दसनि २)।

चुण्णइअ वि [दे] दूराहित, चूरन से आहत, जिस प्रकार चूर्ण फेंका गया हो वह (दे ३, १७, पाम्)।

चुण्णग पु [चूर्णक] वृक्ष-विशेष (आचा २, १०, २३)।

चुण्णा छी [चूर्णा] छन्द-विशेष, वृत्त-विशेष (पिग)।

चुण्णाआ छी [दे] कला विज्ञान (दे ३, १६)।

चुण्णासी छी [दे] दासी, नौकरानी (दे ३, १६)।

चुण्णि छी [चूर्णि] ग्रन्थ की टीका-विशेष (निचू)।

चुण्णिअ वि [चूर्णित] १ चूर-चूर किया हुआ (पाम्)। २ घूली से व्याप्त (दे ३, १७)।

चुण्णिआ छी [चूर्णिका] भेद-विशेष, एक तरह का पृथग्भाव, जैसे पिसान का अवयव अलग-अलग होता है (परण ११)।

चुण्णिय वि [चूर्णिक] गणित-प्रसिद्ध सर्वा-वशिष्ट अश (सुज्ज १०, २२—पत्र १८५, १२—पत्र २१६)।

चुइस देखो चउ-इस (सुर ८, ११८)।

चुन्न देखो चुण्ण (कुमा, ठा ३, ४, प्रासू १८, भाव २, पमा ३१)।

चुन्नण न [चूर्णन] चूर-चूर करना (रवा ३)।

चुन्नि देखो चुण्णि (विचार ३५२, चउ)।

चुन्निअ देखो चुण्णिअ (परह २, ४)।

चुन्निआ देखो चुण्णिआ (भास ७)।

चुप्प वि [दे] मस्तेह, स्निग्ध (दे ३, १५)।

चुप्पल पु [दे] शेखर, अ्रवतस (दे ३, १६)।

चुप्पलिअ न [दे] नया रंगा हुआ वपडा (दे ३, १७)।

चुप्पालय पुं [दे] भरोखा, गवाक्ष, वातायन, जगला (दे ३, १७)।

चुरिम न [दे] खाद्य-विशेष (पव ४)।

चुलचुल अक [चुलचुलाय्] उत्कण्ठित होना, उत्सुक होना। बहू, चुलचुलंत (गा ४८१)।

चुलणी छी [चुलनी] १ दुपद राजा की छी (गाया १, १६, उप ६४८ टी)। २ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता (महा)। °पिय पु [°पितृ] भगवान् महावीर का एक मुख्य उपासक (जवा)।

चुलसी छी [चतुरशीति] चौरासी, ग्रस्ती और चार, ८४ (महा, जी ४७), 'चुलसीए नागकुमारवासासयसहस्तेसु' (भग)।

चुलसीइ देखो चुलसी (पजम २०, १०२, ज २)।

चुलिआला छी [चुलियाला] छन्द विशेष (पिग)।

चुलुअ पुन [चुलुक] उल्फू, पसर, एक हाथ का सपुटाकार (दे ३, १८, सुपा २१६, प्रासू ५७)।

चुलुक देखो चालुक (दे १, ८४ टी)।

चुलुचुल अक [स्पन्द्] फडकना, फरकना, थोडा हिलना। चुलुचुलइ (हे ४, १२७)।

चुलुचुलिअ वि [स्पन्दित] १ फरका हुआ, कुछ हिला हुआ। २ न स्फुरण, स्पन्दन (पाम्)।

चुलुप्प पु [दे] छाग, अज, बकरा (दे ३, १६)।

चुल पु [दे] १ शिशु, बालक। २ दास, नौकर (दे ३, २२)। ३ वि छोटा, लघु (ठा २, ३)। °ताय पु [°ताय] पिता का छोटा भाई, चाचा (पि ३२५)। °पिउ पु

(पडि) । °भद् पु [°भद्र] यक्षद्वीप का अधिपति देव-विशेष (चद २०) । °मंडलप-विभक्ति स्त्री [°मण्डलप्रविभक्ति] एक तरह का नाट्य (राय) । °मह पुं [°मह] यक्ष के लिए किया जाता महोत्सव (आचा २, १, २) । °महाभद् पुं [°महभद्र] यक्ष द्वीप का अधिपति देव (चद २०) । °महावर पु [°महावर] यक्ष समुद्र का अधिष्ठाता देव-विशेष (चद २०) । °राय पु [°राज] १ यक्षो का राजा, कुबेर । २ प्रधान यक्ष (सुपा ४६२) । ३ एक विद्याधर राजा (पउम ८, १२४) । °वर पु [°वर] यक्ष-समुद्र का अधिपति देव-विशेष (चद २०) । °इड्डु वि [°विष्ट] यक्ष का आवेशवाला, यक्षाधिष्ठित (ठा ५, १, वव २) । °दित्तय, °लित्तय न [°दिप्तक] १ कभी-कभी किसी दिशा में विजली के समान जो प्रकाश होता है वह, आकाश में व्यन्तर-कृत अग्नि-दीपन (भग ३, ६, वव ७) । २ आकाश में दीखता अग्नि-युक्त पिशाच (जीव ३) । °वेस पु [°वेश] यक्ष-कृत आवेश, यक्ष का मनुष्य-शरीर में प्रवेश (ठा २, १) । °हिच पुं [°धिप] १ वैश्रमण, कुबेर, यक्ष राज । २ एक विद्या धर राजा (पउम ८, ११३) । °हिचइ पु [°धिपति] देखो पूर्वोक्त अर्थ (पात्र, पउम ८, ११६) ।

जक्खरत्ति स्त्री [दे यक्षरात्रि] दीपालिका, दीवाली, कार्तिक वदि अमास का पूर्ण (दे ३, ४३) ।

जक्ख्वा स्त्री [यक्षा] एक प्रसिद्ध जैन साध्वी, जो महर्षि स्थूलभद्र की बहिन थी (पडि) ।

जक्खिखद् पु [यक्खेन्द्र] १ यक्षो की स्वामी, यक्षो का राजा (ठा ४, १) । २ भगवान् अरनाथ का शासनाधिष्ठायक देव (पव २६, सति ८) ।

जक्खिखणी स्त्री [यक्षिणी] १ यक्ष-योनिक स्त्री, देवियों की एक जाति (आवम) । २ भगवान् श्रीनेमिनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) ।

जक्खिणी स्त्री [यक्षिणी] देखो जक्ख्वा (भगल २३) ।

जक्खी स्त्री [याक्षी] लिपि-विशेष (विसे ४६४ टी) ।

जक्खुत्तम पु [यक्षोत्तम] यक्ष-देवों की एक अवान्तर जाति (पएण १) ।

जक्खेस पु [यक्षेश] १ यक्षो का स्वामी । २ भगवान् अभिनन्दन का शासन-यक्ष (सति ७) ।

जग न [यक्खत्] पेट की दक्षिण ग्रन्थि (पएह १, १) ।

जग पु [दे] जन्तु, जीव, प्राणी, 'पुडो जगा परिसखाय भिक्खू' (सूअ १, ७, २०) ।

जग पुन [जगत्] प्राणी, जीव, 'पुडविजीवे हिंसिज्जा जे अ तस्सिसिया जगे' (वस ५, १, ६८, सूअ १, ७, २०, १, ११, ३३) ।

जग न [जगत्] जग, ससार, दुनिया (स २४६, सुर २, १३१) । °गुरु पु [°गुरु] १ जगत् में सर्व-श्रेष्ठ पुरुष । २ जगत् का पूज्य । ३ जिन-देव, तीर्थंकर (स २१, पचा ४) । °जीवण वि [°जीवन] १ जगत् को जीलानेवाला । २ पु जिन-देव (राज) । °णाह पु [°नाथ] जगत् का पालक, परमेश्वर, जिन-देव (एदि) । °पियामह पु [°पिता-मह] १ ब्रह्मा, विधाता । २ जिनदेव (एदि) । °पगास वि [°प्रकाश] जगत् का प्रकाश करनेवाला, जगत्प्रकाशक (पउम २२, ४७) । °पहाण न [°प्रधान] जगत् में श्रेष्ठ (गउड) ।

जगई स्त्री [जगती] १ प्राकार, किला, दुर्ग (सम १३, चैत्य ६१) । २ पृथिवी (उत्त १) ।

जगईपठव्य पु [जगतीपर्वत] पर्वत विशेष (राय ७५) ।

जगजग अक [चकास्] चमकना, दीपना । वक्ख जगजगत, जगजगेंत (पउम ७७, २३, १४, १३४) ।

जगड सक [दे] १ भगडना, भगडा करना, कलह करना । २ कदर्थन करना, पीडना । ३ उठाना, जागृत करना । वक्ख जगडत (भवि) । कवक्ख जगडिज्जत (पउम ८२, ६, राज) ।

जगडण न [दे] नीचे देखो (उव) ।

जगडण वि [दे] १ भगडा करानेवाला । २ कदर्थना करानेवाला (धर्मवि ८६, कुप्र ४२६) ।

जगडणा स्त्री [दे] १ भगडा, कलह । २

कदर्थन, पीडन, 'सिए चिय वग्गमहाण्णस जगजगडणापसत्तस्स' (उप ५३० टी) ।

जगडिअ वि [दे] विद्रावित, कर्दाहित (दे ३, ४४, सार्ध ६७, उव) ।

जगडिअ वि [दे] लडाया हुआ (धर्मवि ३१) ।

जगर पु [जगर] सनाह, कवच, वर्म (दे ३, ४१) ।

जगल न [दे] १ पङ्कवाली मंदिर, मंदिर का नीचला भाग (दे ३, ४१) । २ ईह की मंदिरा का नीचला भाग (दे ३, ४१, पात्र) ।

जगार पु [दे] राव, यवाणू (पव ४) ।

जगार पु [जकार] 'ज' अक्षर, 'ज' वर्ण (निचू १) ।

जगार पु [यत्कार] 'यत्' शब्द, 'जगार्हिट्ठाण तगारेण निहंसो कीरइ' (निचू १) ।

जगारी स्त्री [जगारी] अन्न-विशेष, एक प्रकार का सुद्र अन्न, 'असण आयणसत्तुगुण्ण गारीइ' (पचा ५) ।

जगुत्तम वि [जगहुत्तम] जगत्-श्रेष्ठ, जगत् में प्रधान (पएह २, ४) ।

जग्ग अक [जाग] १ जागना, नींद से उठना । २ सचेत होना, सावधान होना । जग्ग, जग्गि (हे ४, ८०, षड्, प्रासू ६८) । वक्ख जग्गत (सुपा १८५) । प्रयो. जग्गवइ (पि ५५६) ।

जग्गण न [जागरण] जागना, निद्रा-त्याग (श्रोष १०६) ।

जग्गविअ वि [जागरित] जागया हुआ, नींद से उठया हुआ (सुपा ३३१) ।

जग्गह पु [यद्मह] जो प्राप्त हो उन ग्रहण करने की राजाना, 'रएणा जग्गहो धीसिमा' (आवम) ।

जग्गाविअ देखो जग्गविअ (सि १०, ५६) ।

जग्गाह देखो जग्गह (आक) ।

जग्गिअ वि [जागृत] जगा हुआ, व्यक्त-न्द्रि (गा ३८५, कुमा, सुपा ५६३) ।

जग्गिर वि [जागरित्] १ जागनेवाला । २ सावचेत रहनेवाला (सुपा २१८) ।

जघण न [जघन] कपूर के नीचे का नाग, ऊरुत्थल (कप्प, श्रौप) ।

श्रीमो देवता की प्रतिमा, 'कल्लाए मगल वेइय पञ्जुवासामो' (श्रीप. भग) । ५ अहं-प्रतिमा, जिन-देव की मूर्ति (ठा ३, १, उवा, परह २, ३, भाव २, पडि), 'विहएए उप्पाएए नदीसरवरे बीवे समोसरण करेइ, तहि चेइमाइ ववइ' (भग २०, ६), 'जिए विवे मगलचेइयति सययन्नुणो विति' (पव ७६) । ६ उजान, बगोचा, 'मिहिलाए चेइए वच्छे सीअच्छाए मणोरमे' (उत्त ६, ६) । ७ सभा वृक्ष, सभा गृह के पास का वृक्ष । न चवूतरा-वाला वृक्ष । ६ देवो का चिह्न-भूत वृक्ष । १० वह वृक्ष जहाँ जिनदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है (ठा न सम १३, १५६) । ११ वृक्ष, पेड़, 'वाएए हीरमाएमि चेइयमि मणोरमे' (उत्त ६, १०) । १२ यज्ञ स्थान । १३ मनुष्यो का विश्राम-स्थान (षड्, हे २, १०७) । खभ पु [स्तम्भ] स्तूप, धूम, (सम ६३, राय, सुज १८) । घर न [गृह] जिन-मन्दिर, अहंमन्दिर (पउम २, १२, ६४, २६) । जत्ता ली [यात्रा] जिन-प्रतिमा-सम्बन्धी महोत्सव-विशेष (धर्म ३) । धूम पु [स्तूप] जिन-मन्दिर के समीप का स्तूप (ठा ४, २, ज १) । द्रव्य न [द्रव्य] देव-द्रव्य, जिन-मन्दिर-सवधी स्थावर या जगम मिल्कत (वव ६, पञ्चभा, उप ६०७, द्र ४) । परिवाडी ली [परि-पाटी] क्रम से जिन मन्दिरों की यात्रा (धर्म २) । मह पु [मह] वैत्य-सम्बन्धी उत्सव (आचा २, १, २) । स्खव पु [वृक्ष] १ चवूतरावाला वृक्ष, जिसके नीचे चौतरा बाधा हो ऐसा वृक्ष । २ जिन-देव को जिसके नीचे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वह वृक्ष । ३ देवताओं का चिह्न भूत वृक्ष । ४ देव-सभा के पास का वृक्ष (सम १३, १५६, ठा न) । वन्दन न [वन्दन] जिन-प्रतिमा की मन, वचन और काया से स्तुति (पव १, सप १, ३) । वदणा ली [वन्दना] वही पूर्वोक्त अर्थ (सप १) । वास पु [वास] जिन मन्दिर में यतियों का निवास (दस) । हर देखो घर (जीव १, पउम ६५, ६२, सुपा १३, द्र ६५, उवर १६०) । चेइअ वि [चेतित] कृत, विहित, तत्य २

अगारीहि अगाराइ चेइमाइ भवति (आचा २, १, २, २), 'चेइअ कइमेगट्ट' (वृह २, कस) । चेघ देखो चिघ (प्राप्र) । चेच्चा देखो चे = त्यन् । चेट्ट अक [चेट्ट] प्रयत्न करना, आचरण करना । वक्क चेट्टमाण (काल) । चेट्ट देखो चिट्ट = स्था (दे १, १७४) । चेट्टण न [स्थान] स्थिति, अवस्थान (वव ४) । चेट्टण देखो चिट्टण = चेट्टण (उपप ११) । चेट्टा ली [चेट्टा] प्रयत्न, आचरण (ठा ३, १, सुर २, १०६) । चेट्टिय देखो चिट्टिय = चेट्टि (श्रीप, महा) । चेड पु [दे] बाल, कुमार, शिशु (दे ३, १०, राया १, २, वृह १) । चेड } पु [चेट, रु] १ दास, नौकर
चेडग } (श्रीप, कप्प) । २ वृष-विशेष,
चेडय } वैशालिका नगरी का एक स्वनाम प्रसिद्ध राजा (आच १, भग ७, ६, महा) । ३ मैला देवता, देव की एक जघन्य जाति (सुपा २१७) । चेडिआ ली [चेटिका] वासी, नौकरानी (भग ६, ३३, कप्प) । चेडी ली [चेटी] ऊपर देखो (आवम) । चेडी ली [दे] कुमारी, बाला, लडकी (पाळ) । चेत न [चैत्य] चैत्य-विशेष (षड्) । चेत पु [चैत्र] १ मास-विशेष, चैत मास (सम २६, हे १, १५२) । २ जैन मुनियों का एक गच्छ (वृह ६) । चेत्ती ली [चैत्री] १ चैत मास की पूर्णिमा । २ चैत मास की श्रावण (सुज १०, ६) । चेदि देखो चेइ (सण) । चेदीस पु [चेदीश] चेदि देश का राजा (सण) । चैयग वि [चेतक] दाता, देनेवाला (उप ६५७) । चैयण पु [चेतन] १ आत्मा, जीव, प्राणी (ठा ४, ४) । २ वि चेतनावाला, ज्ञानवाला, 'भुवि चैयण च किमइव' (विसे १८४५) । चैयणा ली [चेतना] ज्ञान, चैत, चैतन्य, सुध, ब्याल (आव ६, सुर ४, २४५) । चैयण } न [चैतन्य] ऊपर देखो (विसे
चैयन्न } ४७५, सुपा २०, सुर १४, न) । चैयस देखो चैअ = चैतस्,

'ईसादासेण आविट्ठे, कलुमाविलवेयमे । जे अतराय चेएइ, महामोह पकुव्वइ' (सम ५१) । चैया देखो चैयणा, 'पत्तेयमभावाओ, न रेणु-तेल्ल व समुदए चैया' (विमे १६५२) । चेल } न [चेल] वृक्ष, कपडा (आचा
चेलय } श्रीप) । कृष्ण न [कृष्ण] व्यजन-विशेष, एक तरह का पस्ता (म ५४६) । गोल न [गोल] वृक्ष का गंद कन्दुक (सूस १, ४, २) । हर न [गृह] तन्द्र, पट-मण्डप, रावटी (स ५३७) । चेलय न [दे] तुला-पान, 'दिठ्ठीतुलाए मुवण, तुलति जे चित्तचेलए निहिय' (वजा ५६) । चेलिय देखो चेल, 'रयणकचणचेलियवहुवन्न-भरपरिया' (पउम ६६, २५, आचा) । चेलुप न [दे] मुसल, मूल (दे ३, ११) । चेल्ल } [दे] देखो चिल्ल (दे) (पउम ६७,
चेल्लअ } १३, १६, स ४६६, दसति १, उप २६८) । चेहग } [दे] देखो चिल्लग (परह १,
चेल्य } ४—पत्र ६८, ती ३३) । चैव अ [एव, चैव] १ अवधारण सूचक अव्यय, निश्चयदर्शक शब्द, 'जो कुएइ परसस वृह पावइ त चैव सो अणएत-गुण' (प्रासू २६-महा), 'अवहारणे चैवसद्दो य' (विमे ३५६५) । २ पाद-पूरक अव्यय (पउम ८, ८८) । चैव अ [इव] सादृश्य-द्योतक अव्यय, 'पेचइ गणहरवसह सरयगवि चैव तेएण' (पउम ३, ४, उत्त १६, ३) । चो देखो चउ (हे १, १७१, कुमा, सम ६०, श्रीप, भग, राया १, १, १४, विपा १, १, सुर १४, ६७) । आला ली [चत्वारि-शत] चालीस और चार, ४४ (वसे २३०४) । वट्टि ली [पट्टि] चौसठ, ६४ (कप्प) । वत्तारि ली [सप्तति] सत्तर और चार, ७४ (सम ८४) । चोअ सक [चोदय्] १ प्रेरणा करना । २ कहना । चोएइ (उव, स १५) । कवक्क-चोइज्जत, चोइज्जमाण (सुर २, १०, राया १, १६) । सक्क चोइऊण (महा) । चोअअ वि [चोदक] प्रेरक, प्ररन-कर्ता, पूर्व-पक्षी (अणु) ।

६५. स्पन् १६)। २ देहाती मनुष्य (सुप्र १, १, २)। ३ समुदाय, वर्ग, लोक (कुमा, पंचव ४)। ४ वि. उत्पादक, उत्पन्न करने-वाला, 'जेण सुहजम्पजण' (विसे ६६०)।
 जत्ता स्त्री [यात्रा] जन-समागम, जन-संगति, 'जणजत्तारहियाण होइ जइत्त जईण सया' (दम ४)। °ट्टाण न [स्थान] १ दर-कारण्य, दक्षिण का एक जगल। २ नगर-विशेष, नासिक (ती २८)। °वइ पुं [पति] लोगो का मुखिया (श्रीप)। °वय पुं [व्रज] मनुष्य समूह (पउम ४, ५)। °वाय पुं, [वाद] १ जन-श्रुति, किवदन्ती, उडती खबर (सुपा ३००)। २ मनुष्यो की आपस में चर्चा (श्रीप)। ३ लोकापवाद, लोक में निन्दा, 'जणवायभएण' (अव १)। °स्सुइ स्त्री [श्रुति] किवदन्ती। °ववाय पु [ापवाद] लोक में निन्दा (गा ४८४)।
 जणइ स्त्री [जनिका] उत्पादिका, उत्पन्न करनेवाली (कुमा)।

जणइउ पु [जनयित्] १ जनक, पिता
 जणइत्तु (राज)। २ वि उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला (ठा ४, ४)।

जणउत्त पु [दे] ग्राम का प्रधान पुरुष, गाँव का मुखिया (दे ३, ५२, षड्)। २ विद, भारद्वाज, भौंड, विदुषक (दे ३, ५२)।
 जणगम पु [जनङ्गम] चारडाल, 'रायणो हुँति रका य वंसणा य जणगमा' (उप १०३१ टी. पात्र)।

जणग देखो जगय (भग, उप पृ २१६, सुर २, १३७)।

जणण न [जनन] १ जन्म देना, उत्पन्न करना, पैदा करना (सुपा ५६७, सुर ३, ६, ड्र ५७)। २ वि उत्पादक, जनक (उर ६, ६, कुमा, भवि), 'जणमणएसयाजणणा' (वसु)।

जणगि स्त्री [जननि, °नी] १ माता, जणगी } अम्बा (सुर ३, २५, महा, पात्र)।
 २ उत्पन्न करनेवाली स्त्री, उत्पादिका (कुमा)।

जणइण पुं [जनार्दन] श्रीकृष्ण, विष्णु (उप ६४८ टी, पिण)।

जणपवाद पु [जनप्रवाद] जन-रव, लोकोक्ति, अफवाह (मोह ४३)।

जणमेअअ पुं [जनमेजय] स्वनाम-प्रसिद्ध वृष-विशेष (चाच १२)।

जणमेजय देखो जणमेअअ (धर्मवि ८१)।

जणय वि [जनक] १ उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला, 'दिट्ठिविय पिसुणण सव्वं सव्वस्स भयजणय' (प्रासू १६)। २ पुं पिता, बाप (पात्र, सुर ३, २५, प्रासू ७७)। ३ देखो जण = जन (सुप्र १, ६)। ४ मिथिला का एक राजा, राजा जनक, सीता का पिता (पउम २१, ३३)। ५ पुन व माता-पिता, मा-बाप, 'जं कियि कोई साहइ, तज्जणयाइ कुणति त सव्व' (सुपा ३५६, ५६८)।

°तणआ स्त्री [तनया] राजा जनक की पुत्री, राजा रामचन्द्र की पत्नी, सीता, जानकी (से १, ३७)। °दुहिया, °धूआ [दुहितृ] वही अर्थ (पउम २३, ११, ४८, ४)।

°नदण पु [नन्दन] राजा जनक का पुत्र, भामरडल (पउम ६५, २५)। °नदणी स्त्री [नन्दनी] सीता, राम-पत्नी, जानकी (पउम ६४, ४६)। °णदिणी स्त्री [नन्दिनी] वही अर्थ (पउम ४५, १८)।

°निवतणया स्त्री [नृपतनया] राजा जनक की पुत्री, सीता (पउम ४८, ६०)। °पुत्ती स्त्री [पुत्री] वही अर्थ (रयण ७८)।

°सुअ पुं [सुत] जनक राजा का पुत्र, भामरडल (पउम ६५, २८)। °सुआ स्त्री [सुता] जानकी, सीता (पउम ३७, ६२, से २, ३८, १०, ३)।

जणयगया स्त्री [जनकाङ्गजा] जानकी, सीता, राजा रामचन्द्र की पत्नी (पउम ४१, ७८)।

जणवय पु [जनपद] १ देश, राष्ट्र, जन-स्थान, लोकालय (श्रीप)। २ देश-निवासी जन समूह, प्रजा (परह १, ३, आचा)।

जणवय वि [जानपद] देश में उत्पन्न, देश का निवासी (आचा)।

जणस्सुइ स्त्री [जनश्रुति] किवदन्ती, अफवाह, कहावत (धर्मवि ११२)।

जणि (अप) अ [इव] तरह, माफिक, जैमा (हे ४, ४४४, षड्)।

जणिअ वि [जनित] उत्पादित, उत्पन्न किया हुआ (पात्र)।

जणी स्त्री [जनी] स्त्री, नारी, महिला (पिण २—पत्र २५३, पउम १५, ७३)।

जणु देखो जणि (हे ४, ४४४; कुमा, षड्)।
 जणुकलिआ स्त्री [जनोत्कलिका] मनुष्य का छोटा समूह (भग)।

जणुम्मि स्त्री [जनोर्म्मि] तरंग की तरह मनुष्यों की भीड़ (भग)।

जणोमाण देखो जण = जनय्।

जणेर (अप) वि [जनक] १ उत्पादक, पैदा करनेवाला। २ पु पिता, बाप (भवि)।

जणेरि (अप) स्त्री [जननी] माता, माँ (भवि)।
 जणण पु [यज्ञ] १ यज्ञ, याग, यज्ञ, यज्ञ (प्राप्र, गा २२७)। २ देव-पूजा। ३ अष्ट (जीव ३)। ४, °जाइ वि [याजित्] यज्ञ करनेवाला (श्रीप, निरु १)। ५ इज्ज वि [जीय] १ यज्ञ-सम्बन्धी, यज्ञ का। २ न 'उतराव्ययन' सूत्र का एक प्रत्यय (उत् २५)। ६ °ट्टाण न [स्थान] १ यज्ञ का स्थान। २ नगर-विशेष, नासिक (ती २७)।

°सुह न [मुख] यज्ञ का उपाय (उत् २५)। °वाड पुं [वाट] यज्ञ-स्थान (गा २३७)। °सेट्ट पु [श्रेष्ठ] श्रेष्ठ यज्ञ, उत्तम का (उत् १२)।

जणण देखो जन्न = जन्य (धर्मस १००)।
 जणणय देखो जणय (प्राप्र)।

जणणयत्ता स्त्री [दे यज्ञयात्रा] यज्ञ-विवाह की यात्रा, वर के साथियों का (उप ६५४)।

जणणसेणी स्त्री [याज्ञसेनी] शीपवी, पत्नी (वेणी ३७)।

जणणहर पु [दे] नर-राक्षस, कुम्भ (षड्)।

जणणय पु [याज्ञिक] याज्ञिक, यज्ञ करने-वाला (आवम)।

जणणोवईय } न [यज्ञोपवीत] यज्ञ-
 जणणोववीय } जनेज (उत् २, आवम)।

जणणोहण पु [दे] राक्षस, पिण्ड (३, ४३)।

जणह न [दे] १ छोटी स्वाती। २ कृष्ण, काले रंग का (दे ३, ५१)।

जणहई स्त्री [जाहवी] गा गद्दी, गद्दी (अचु ६)।

अथ [एव] अवधारण-सूचक अव्यय (हे २, १८४, कुमा, षड्) ।

चिअ देखो चिअ = एव (हे २, १८४, कुमा) ।

चेअ } देखो चेव = एव (पि ६२, जी ३२) ।
चेव }

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवन्मि चयाराइसद्सकलणो
चउद्समो तरंगो समतो ।

छ

छ पु [छ] १ तालु-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप, प्रामा) । २ आच्छादन, ढकना: 'छ त्ति य दोसाण छाये होइ' (आवम) ।

छ वि व [पप्] सख्या-विशेष, छ, 'छ छिआओ जिणसासणम्मि' (आ ६, जी ३२, भग १, न) । उत्तरसय वि [उत्तर-शततम] एक सौ और छठवाँ (पउम १०६, ४६) । कम्म न [कर्मन्] छ. प्रकार के कर्म, जो ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, यथा—यजन, याजन, अव्ययन, आच्यपन, दान और प्रतिग्रह (निचू १३) । काय न [काय] छ प्रकार के जीव, पृथिवी, अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति और त्रस जीव (आ ७, पचा १५) । गुण, गुण वि [गुण] छलना (ठा ६, पि २७०) । चरण पु [चरण] भ्रमर, भौरा (कुमा) । जीव-निकाय पु [जीवनिकाय] देखो काय (आत्ता) । णउइ, णउइ [णवति] सख्या-विशेष, छानवे, ६६ (सम ६८, अजि १०) । तीस जीन [त्रिंशत्] सख्या विशेष, छतीस, ३६ (कप्प) । तीसइम वि [त्रिंशत्तम] छतीसवाँ (पउम ३६, ४३, परण ३६) । इस नि, व [पोडशन्] पोडश, सोलह । इसहा अ [पोडशधा] सोलह प्रकार का (वव ४) । दिसि न [दिश] छ दिशाएँ—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधोदिशा (भग) । छा अ [वा] छ प्रकार का (कम्म १, ३८) । नवइ, नुवइ नउइ देखो णउइ (कम्म ३, ४, १२, सम ७०) ।

अउय वि [णवत्] छानवेवाँ, ६६ वाँ (पउम ६६, ५०) । पण, पण जीन [पञ्चारात्] छपन, ५६ (राज, सम ७३) । पण वि [पञ्चाश] छपनवाँ (पउम ५६, ४८) । भाय पु [भाग] छठवाँ हिस्सा (पि २७०) । भासा जी [भापा] प्राकृत, सस्कृत, मागधी, शौरसेनी, पेशाचिका और अपभ्रंश ये छ भापाएँ (रभा) । भासिय, भासिय वि [पाण-मासिक] छ मास में होनेवाला, छ मास सम्बन्धी (सम २१, औप) । वरिस वि [वर्षिक] छ वर्ष को उभ्रवाला (सार्ध २६) । वीस देखो वीस (पिग) । विह वि [विध] छ प्रकार का (कस, नव ३) । वीस जीन [विंशति] छवीस, वीस और छ (सम ४५) । वीसइम वि [विंशतितम] १ छवीसवाँ २६ वाँ (पउम २६, १०३) । २ लगातार बारह दिनों का उपवास (णाय १, १) । सट्टि जी [षट्ठि] सख्या विशेष, साठ और छ (कम्म २, १८) । सयरि जी [सप्तति] छिहत्तर (कम्म २, १७) । हा देखो छा (कम्म १, ५, न) । छइ देखो छवि = छवि (वा १२) । छइअ वि [स्थगित] आवृत्त, आच्छादित, सिरौहित (हे २, १७, पड्) । छइल } वि [दे] विदग्ध, चतुर, होशियार
छइल } (पिग, दे ३, २४, गा ७२०, वजा पात्र, कुमा) । छउअ वि [दे] तनु, कथ, पतला (दे ३, २५) ।

छउम पुप [छुमन्] १ कपट, शठता, माया (सम १, पड्) । २ छल, बहाना (हे २, ११२, पड्) । ३ आवरण, आच्छादन (सम १, ठा २, १) ।

छउम न [छुमन्] ज्ञानावरणीय आदि चार धाती कर्म (वेइय ३४६) । छउमत्य वि [छुमत्य] १ असर्वज्ञ, सपूर्ण ज्ञान से वञ्चित । २ राग-सहित, सराग (ठा ४, १, ६, ७) ।

छउलूअ देखो छलूअ (राज, विसे २५०८) । छउई जी [दे] कपिकच्छू, वृक्ष-विशेष, केवाँच, कवाछ (दे ३, २४) ।

छट पु [दे] छोटा, जल का छोटा, जल-च्छटा । २ वि, शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे ३, ३३) ।

छट सक [सिच] सीचना । छटसु (सुपा २६८) ।

छटण न [सेचन] सिचन, सिचना (सुपा १३६, कुमा) ।

छंटा जी [दे] देखो छट (पात्र) ।

छटिअ वि [सिच] सीचा हुआ (सुपा १३८) ।

छड देखो छड्ड = युच् । छडइ (आरा ३२, भवि) ।

छडिअ वि [दे] छन, गुप्त (षड्) ।

छडिअ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोडा हुआ (आरा: भवि) ।

छंअ सक [छन्द] १ चाहना, वाञ्छना । २ अनुज्ञा देना, समति देना । ३ निमन्त्रण देना । कवक,

जमा स्त्री [यामी] दक्षिण दिशा (ठा १०—पत्र ४७८) ।

जमालि पु [जमालि] स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार, जो भगवान् महावीर का जामाता था, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी और पीछे से अपना अलग पन्थ निकाला था (छाया १, ८, ठा ७) ।

जमावण न [यमन] १ नियन्त्रण करना । २ विषम वस्तु को सम करना (निचू १) ।

जमिअ वि [यमित] नियन्त्रित, समयित, काव्रु मे किया हुआ (से ११, ४१, सुपा ३) ।

जमुणा देखो जँडणा (पि १७६, २५१) ।

जमू स्त्री [जमू] ईशानेन्द्र की एक अग्र-महिषी का नाम (इक) ।

जम्म अक [जन्] उत्पन्न होना । जम्मइ (हे ४, १३६, पइ) । वक्र जम्मत् (कुमा), 'जम्मतीए सोगो, वड्डंतीए य वड्डए चित्ता' (सूक्त ८८) ।

जम्म सक [जम्] खाना, भक्षण करना । जम्मइ (षड्) ।

जम्म पुंन [जम्मन्] जन्म, उत्पत्ति (ठा ६, महा, प्रासू ६०) ।

जम्मण न [जम्मन्] जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद (हे २, १७४, छाया १, १, सुर १, ६) ।

जम्मा स्त्री [यान्या] दक्षिण दिशा (उप पु ३७५) ।

जम्हाअ } देखो जभाअ । जम्हाअइ,
जम्हाइ } जम्हाहइ, जम्हाहाइ (प्राकृ
जम्हाडा } ६४) ।

जय सक [जि] १ जीतना । २ अक उत्कृष्ट-पन से बरतना । जयइ (महा) । जयति (स ३९) । सङ्क. जइत्ता (ठा ६) ।

जय सक [यज्] १ पूजा करना । २ याग करना । जयइ (उत्त २५, ४) । वक्र, जअमाण (अभि १२५) ।

जय अक [यत्] १ यत्न करना, चेष्टा करना । २ ख्याल करना, उपयोग करना । जयइ (उव) । भवि जइस्सामि (महा) । वक्र-जयत्, जयमाण (स २६०; आ २६, श्लो १२४, पुष्प २४१) । कृ जइयव्व (उव, सुर १, ३४) ।

जय न [जगत्] जगत्, दुनियाँ, ससार (प्रासू १५५, से ६, १) । °त्तय न [°त्रय] स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक (सुपा ७६, ६५) । °नाह पु [°नाथ] परमेश्वर, परमात्मा (पउम ८६, ६५) । °पहु पु [°प्रभु] परमेश्वर (सुपा २८; ८) । °णद वि [°ानन्द] जगत् को आनन्द देनेवाला (पउम ११७, ६) ।

जय वि [यत्] १ संयत, जितेन्द्रिय (भास ६५) । २ उपयोग रखनेवाला, ख्याल रखनेवाला (उत्त १, भाव ४) । ३ न छठवाँ गुण-स्थानक (कम्म ४, ४८) । ४ ख्याल, उपयोग, सावधानता (छाया १, १—पत्र ३३), 'जय करे जय चिट्ठे' (दस ४) ।

जय पुं [जव] वेग, शीघ्र-गमन, दौड़ (पात्र) ।

जय पुं [जय] १ जय, जीत, शत्रु का पराभव (श्रीप, कुमा) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा (सम १५२) । °उर न [°पुर] नगर-विशेष (स ६) । °कम्मा स्त्री [°कर्मा] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६) । °घोस पुं [°घोष] १ जय ध्वनि । २ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (उत्त २५) । °चद पु [°चन्द्र] १ विक्रम की बारहवीं शताब्दी का कन्नौज का एक अन्तिम राजा । २ पत्तरहवीं शताब्दी का एक जैनाचार्य (रयण ६४) । °जत्ता स्त्री [°यात्रा] शत्रु पर चढाई (सुपा ५४१) । °पढाया स्त्री [°पताका] विजय का झंडा (आ १२) । °पुर देखो °उर (वसु) । °मंगला स्त्री [°मङ्गला] एक राज-कुमारी (दस ३) । °लन्की स्त्री [°लक्ष्मी] जय-लक्ष्मी, विजयश्री (से ४, ३१, काप्र ७४३) । °वत् वि [°वत्] जय-प्राप्त, विजयी (पउम ६६ ४६) । °वल्लह पुं [°वल्लभ] नृप-विशेष (दस १) । °संघ पुं [°सन्ध] पुण्डरीक-नामक राजा का एक मन्त्री (आइ ४) । °सधि पु [°सन्धि] वही पूर्वोक्त अर्थ (भाव ४) । °सह पु [°शब्द] विजय-सूचक आवाज (श्रीप) । °सिंह पुं [°सिंह] १ सिंहल द्वीप का एक राजा (रयण ४४) । २ विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम 'सिद्ध-राज' था, 'जेण जयमिहदेवो राया मणिएण' ।

जय पुं [जयन्त] १ इन्द्र का पुन (पात्र) । २ एक भावी बलदेव (सम १५४) । ३ एक जैन मुनि, जो वज्रसेन मुनि के तृतीय शिष्य थे (कम्प) । ४ इस नाम के देव-विमान में रहनेवाली एक उत्तम देव जाति (सम ५६) । ५ जम्बूद्वीप की जगती के पश्चिम द्वार का एक अविष्ठाता देव (ठा ४, २) । ६ न देव-विमान-विशेष (सम ५६) । ७ जम्बूद्वीप की जगती का पश्चिम द्वार (ठा ४, २) । ८ स्वक पर्वत का एक शिखर (ठा ४) ।

जयती स्त्री [जयन्ती] १ पल की नववीं घट (सुज १०, १४) । २ भगवान् अरुण्य की दीक्षा-शिषिका (विचार १२६) ।

जयती स्त्री [जयन्ती] १ वही-विशेष, भरणी, वर्ष गाँठ (परण १) । २ सम बलदेव की माता (सम १५२) । ३ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३) । ४ अगारक-नामक ग्रह की एक अग्र महिषी (ठा ४, १) । ५ जम्बूद्वीप के मेरु से पश्चिम दिशा में स्थित स्वक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्-कुमारी देवी (ठा ८) । ६ भगवान् महावीर की एक उपायिका (सम १२, २) । ७ भगवान् महावीर के आठवें गणधर की माता (भावम) । ८ भजनक

सयलदेसम्मि' (मुखि १०६००) । ३ स्वनाम-ख्यात जैनाचार्य-विशेष (सुपा ६५८), 'सिरि जयसिहो सूरौ समयरीमएण्णम्मि सुप्रसिद्धो' (मुखि १०८७२) । °सिरि स्त्री [°श्री] विजयश्री, जयलक्ष्मी (भावम) । °सेण पु [°सेन] स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा (महा) । °वह वि [°वह] १ जय की वहन करने वाला, विजयी (पउम ७०, ७, सुपा २३४) । २ विद्याधर-नगर-विशेष (इक) । °वहपुर न [°वहपुर] एक विद्याधर-नगर (इक) । °वास न [°वास] विद्याधरों का एक स्वनाम-ख्यात नगर (इक) ।

जय पुं [यत्] प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश (दस ५, १, ९६) ।

जय पुष्ठी [जया] तिथि-विशेष—तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि (जं १) ।

जय° देखो जया = यदा । °पमिइ प्र [°प्रभृति] जब से, जिस समय से (स ३१६) ।

जयत पु [जयन्त] १ इन्द्र का पुन (पात्र) । २ एक भावी बलदेव (सम १५४) । ३ एक जैन मुनि, जो वज्रसेन मुनि के तृतीय शिष्य थे (कम्प) । ४ इस नाम के देव-विमान में रहनेवाली एक उत्तम देव जाति (सम ५६) । ५ जम्बूद्वीप की जगती के पश्चिम द्वार का एक अविष्ठाता देव (ठा ४, २) । ६ न देव-विमान-विशेष (सम ५६) । ७ जम्बूद्वीप की जगती का पश्चिम द्वार (ठा ४, २) । ८ स्वक पर्वत का एक शिखर (ठा ४) ।

जयती स्त्री [जयन्ती] १ पल की नववीं घट (सुज १०, १४) । २ भगवान् अरुण्य की दीक्षा-शिषिका (विचार १२६) ।

जयती स्त्री [जयन्ती] १ वही-विशेष, भरणी, वर्ष गाँठ (परण १) । २ सम बलदेव की माता (सम १५२) । ३ विदेह वर्ष की एक नगरी (ठा २, ३) । ४ अगारक-नामक ग्रह की एक अग्र महिषी (ठा ४, १) । ५ जम्बूद्वीप के मेरु से पश्चिम दिशा में स्थित स्वक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्-कुमारी देवी (ठा ८) । ६ भगवान् महावीर की एक उपायिका (सम १२, २) । ७ भगवान् महावीर के आठवें गणधर की माता (भावम) । ८ भजनक

ऋतु को पूर्णिमा का चन्द्रमा (स ३७१) ।
°ससि पु [°शशिन्] वही पूर्वोक्त अर्थ
(सुपा ३०६) ।

छरण न [छगन] हिसन, हिसा (आचा) ।

छणितु पु [क्षणेन्दु] शरद ऋतु की पूर्णिमा
का चन्द्र (सुपा ३३, ४०४) ।

छण वि [छन्न] १ गुप्त, प्रच्छन्न, छिपाया हुआ
(बृह १, प्राप) । २ आच्छादित, ढका हुआ
(गा ५८०) । ३ न माया, कपट (सूत्र १,
२, २) । ४ निर्जन, विजन, रहसू । ५ क्रिवि
गुप्त रीति से, प्रच्छन्न रूप से,

‘ज छरण आयरिय,

तद्वया जणणीए जेवणमएण ।

त पडिव (? यडि) ज्जइ

इएह सुएहि सील चयतेहि’

(उप ७२८ टी) ।

छणालय न [दे पणालक] त्रिकाण्टिक,
तिपाई, सन्यासियो का एक उपकरण (भग,
श्रौप, णाया १, ५) ।

छत्त न [छत्र] छाता, आतपात्र (णाया १,
५, प्रासू ५२) । °धार पु [°धार] छाता
धारण करनेवाला नौकर (जीव ३) । °पडागा
बी [°पताका] १ छत्र-युक्त ध्वज । २ छत्र
के ऊपर की पताका (श्रौप) । °पलासय न
[°पलाशक] कृतमगला नगरी का एक चैत्य
(भग) । °भग पु [°भञ्ज] राज-नाश, नृप-
मरण (राज) । °हार देखो °वार (आवम) ।
°इच्छत्त न [°तिच्छत्र] १ छत्र के
ऊपर का छाता (सम १३७) । २ पु
ज्योतिष-शास्त्र प्रसिद्ध योग-विशेष (सुज १२) ।

छत्त न [छत्र] लगातार तैतीस दिनों का उप-
वास (सबोध ५८) । पुन. एक देवविमान
(देवेन्द्र १४०) । ३ पुं ज्योतिष प्रसिद्ध एक
योग जिसमें चन्द्र आदि ग्रह छत्र के आकार
से रहते हैं (सुज १२—पत्र २३३) । °इल्ल
वि [°वन्] छातावाला (सुख २, १३) ।
°कार वि [°कार] छाता बनानेवाला शिल्पी
(अपु १४६) । °ग पुन [°क] वनस्पति-
विशेष (सूत्र २, ३, १६) ।

छत्त पु [छत्र] विद्यार्थी, अभ्यासी (उप पु
३३१, १६६ टी) ।

छत्तिया बी [छत्रान्तिका] परिपद-विशेष,
सभा-विशेष (बृह १) ।

छत्तच्छय (अप) पु [सप्तच्छद] वृक्ष-विशेष,
सतौना, छतिवन (सण) ।

छत्तधन्न न [दे] घास, तृण (पाम्र) ।

छत्तवण देखो छत्तिवण (प्राप्र) ।

छत्ता बी [छत्रा] नगरी-विशेष (आवम) ।

छत्तार पु [छत्रकार] छाता बनानेवाला
कारीगर (परण १) ।

छत्ताइ पु [छत्राभ] वृक्ष-विशेष, ‘एग्गोहस-
त्तिवण्णे, साले पियए पिययुद्धताहे’ (सम
१५२) ।

छत्ति वि [छत्रिन्] छत्र-युक्त, छातावाला
(भास ३३) ।

छत्तिवण पु [सप्तपर्ण] वृक्ष-विशेष, सतौना,
छतिवन, (हे १, २६५, कुमा) ।

छत्तोव पु [छत्रोक] वनस्पति-विशेष, वृक्ष-
विशेष (परण १—पत्र ३५) ।

छत्तोव पुं [छत्रोप] वृक्ष-विशेष (श्रौप, अत) ।

छत्तोह पु [छत्रौघ] वृक्ष-विशेष (श्रौप, परण
१—पत्र ३१, भग) ।

छदमत्थ देखो छउमत्थ (द्रव्य ४४) ।

छदवण देखो छडुवण (राज) ।

छदसम वि [पड्दश] छ या दश (सूत्र २,
२, २१) ।

छदी बी [दे] शय्या, बिछौना (दे ३, २४) ।

छन्न वि [क्षण] हिसा-प्रधान, हिसा-जनक
(सूत्र १, ६, २६) ।

छन्न देखो छण (कप्प, उप ६४८ टी, प्रासू
८२) ।

छप्पइगिल्ल वि [षट्पदिकावत्] युका-युक्त
युकावाला (बृह ३) ।

छप्पइया बी [षट्पदिका] युका, षू (श्रौष
७२४) ।

छप्पती बी [दे] नियम-विशेष, जिसमें पद्य
लिखा जाता है (दे ३, २५) ।

छप्पण } वि [दे पट्पञ्चक] विदग्ध,
छप्पणय } चतुर, चालाक (दे ३, २४,
पाम्र, वजा ५८) ।

छप्पत्तिआ बी [दे] १ चपत, थपड,
तमाचा । २ चपाती, रोटी, फुलका,

‘छप्पत्तिआवि खज्जइ,

निप्पत्ते पुत्ति । एत्थ को देसो ? ।

निम्पपुरित्सेवि रमिज्जइ,

परपुरिसविवज्जिए गामे’

(गा ८८७) ।

छप्पन्न [दे] देखो छप्पण (जय ६) ।

छप्पय पु [पट्पद] १ भ्रमर भौरा (हे १,
२६५, जीव ३) । २ वि. छ स्थानवाला ।
३ छ प्रकार का (विमे २८६१) । ४ न.
छन्द-विशेष (पिग) ।

छव्व } पुन [दे] पात्र-विशेष (आचा २,
छव्वग } १, ८, १, पिड ५६१, २७८) ।

छव्वय न [दे] वरा-पिटक, धी वौरह को
छानने का उपकरण-विशेष, ‘मुइगाईमक्कोड-
एहि ससत्तग च नाऊण । गालेज्ज छव्वएण’
(श्रौष ५५८) ।

छव्वभामरी बी [पट्भ्रामरी] एक प्रकार की
बीणा (णाया १, १७—पत्र २२६) ।

छमच्छम अक [छमच्छमाय्] ‘छम-छम’
आवाज करना, गरम चीज पर दिया जाता
पानी की आवाज । छमच्छमइ (वज्जा ८८) ।
छमं देखो छमा । °रुह पु [°रुह] वृक्ष, पेड़,
वरह्त (कुमा) ।

छमलय पु [दे] सप्तच्छद, वृक्ष-विशेष,
सतौना, छतिवन (दे ३, २५) ।

छमा बी [क्षमा, क्ष्मा] पृथिवी, धरणी,
भूमि (हे २, १८) । °हर पुं [°धर] पर्वत,
पहाड़ (पड्) । देखो छमं ।

छमी बी [शमी] वृक्ष-विशेष, अग्नि-नाभं वृक्ष
(हे १, २६५) ।

छम्म देखो छउम (हे २, ११२, पड्, पउम
४०, ५, सण) ।

छम्मुह पु [पण्मुख] १ स्कन्द, कार्तिकेय (हे
१, २६५) । २ भगवान् विमलनाथ का
अधिष्ठायक देव (सति ८) ।

छय न [छद] १ पूर्ण, पत्ती, पत्र, पत्ता (श्रौप) ।
२ आवरण, आच्छादन (से ६, ४७) ।

छय न [क्षत] १ त्रण, धाव (हे २, १७) ।
२ पीडित, त्रणित (सूत्र १, २, २) ।

छयल्ल [दे] देखो छइल्ल (रंभा) ।

छरु पु [त्सरु] खड्ग-मुष्टि, तलवार का हाथा
(परह १, ४) । °पवाय न [°प्रवाद]
खड्ग-शिक्षा-शास्त्र (ज २) ।

°चारिया स्त्री [°चारिका] क्षुद्र जन्तु-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (राज)।
 °जत न [°यन्त्र] पानी का यन्त्र, पानी का फवारा (कुमा)। °गाह पु [°नाथ] समुद्र, सागर, (उप ७२८ टी)। °णिहि पुं [°निधि] समुद्र, सागर (गउड)। °णीली स्त्री [°नीली] शैवाल (दे ३, ४२)। °तुसार पु [°तुषार] पानी का विन्दु (पात्र)। °थमिणी स्त्री [°स्तम्भिनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६)। °द पुं [°द] मेघ, अन्न (मुद्रा २६२, पव १८)। °हा स्त्री [°द्रा] पानी से भीजाया हुआ पखा (सुपा ४१३)। °निहि देखो °णिहि (प्रासू १२७)। °पभ पुं [°प्रभ] १ इन्द्र-विशेष, उदधिकुमार-नामक देव-जाति का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३)। २ जलकान्त नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °य न [°ज] कमल, पद्म (पउम १२, ३७, श्रौप, परए १)। °य देखो °द (काल, गउड, से १, २४)। °य र पुं स्त्री [°चर] जल में रहने वाला ग्राहार्दि जन्तु (जी २०)। स्त्री °री (जीव २)। °रङ्ग पुं [°रङ्ग] पक्षि-विशेष, हँस पक्षी (गा ५७८, गउड)। °रक्खस पुं [°राक्षस] राक्षस की जाति (परए १)। °रम्ण न [°रमण] जल-क्रीडा, जल-कैलि (गाया १, १३)। °रय पुं [°रय] जलप्रभ-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °रासि पु [°राशि] समुद्र, सागर (सुपा १६५, उप २६४ टी)। °रुह पुन [°रुह] पानी में पैदा होनेवाली वनस्पति (परए १)। °रुव पु [°रूप] जलकान्त नामक इन्द्र का एक लोकपाल (अश ३, ८)। °लिहिर न [°लिहिर] पानी में उत्पन्न होनेवाली वस्तु-विशेष (दस १)। °वायस पु स्त्री [°वायस] जलक्रीडा, पक्षि-विशेष (कुमा)। °वासि वि [°वासिन्] १ पानी में रहनेवाला। २ पु तापसों की एक जाति, जो पानी में ही निमग्न रहते हैं (श्रौप)। °वाह पु [°वाह] १ मेघ, अन्न (उप ३२, सुपा ८६)। २ जन्तु-विशेष (पउम ८८, ७)। °विच्छुय पुं [°वृश्चिक] पानी का विच्छू, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (परए १)। °वीरिय पु

[°वीर्य] १ इक्ष्वाकु वंश का एक स्वनाम-ख्यात राजा (ठा ८)। २ क्षुद्र-क्रीड-विशेष, चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (जीव १)। °सय न [°शय] कमल, पद्म (उप १०३१ टी)। °साला स्त्री [°शाला] प्रपा, पानी पिलाने का स्थान, प्याऊ (आ १२)। °सुग न [°शूक] १ शैवाल। २ जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °सेल पु [°शैल] समुद्र के भीतर का पर्वत (उप ५६७ टी)। °हृत्थि पुं [°हृत्थिन्] जल-हस्ती, पानी का एक जन्तु (पात्र)। °हर पुं [°धर] १ मेघ, अन्न (सुर २, १०४, से १, ५६)। २ एक विद्याघर सुभट (पउम १२, ६५)। °हर पु [°भर] जल-समूह (गउड)। °हर न [°शुह] समुद्र, सागर (से १, ५६)। °हरण न [°हरण] १ पानी की ज्यारी (पात्र)। २ इन्द्र-विशेष (पिंग)। °हि पु [°धि] १ समुद्र, सागर (महा, सुपा २२३)। २ चार की सख्या (विवे १४४)। °सय पु न [°शय] सरोवर, तलाव (सुर ३, १)। जलइय पु [जलकित] जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८)। जलजलि पु [जलाञ्जलि] तपण, दोनो हाथों में लिया हुआ जल (सुर ३, ५१, कप्पू)। जलग पुं [ज्वलक] अग्नि, आग (पिड)। जलजलिअ वि [जलजलित] 'जल-जल' शब्द से युक्त (सिरि ६६४)। जलजलित वि [जाज्वल्यमान] देदीप्यमान, चमकता (कप्प)। जलग पु [ज्वलन] १ अग्नि, वहि (उप ६४८ टी)। २ देवी की एक जाति, अग्नि-कुमार-नामक देव-जाति (परए १, ४)। ३ वि जलता हुआ। ४ चमकता, देदीप्यमान, 'एईए जलगजलणोवमाण' (उप ६४८ टी)। ५ जलानेवाला (सूत्र १, १, ४)। ६ न अग्नि सुलगाना (परए १, ३)। ७ जलाना, भस्म करना (गच्छ २)। °जडि पु [°जटिन्] विद्याघर वंश का एक राजा (पउम ५, ४६)। °मित्त पु [°मित्र] स्वनाम-ख्यात एक प्राचीन कवि (गउड)। जलावण न [ज्वालन] जलाना, दग्ध करना (परए १, १)।

जलिअ वि [ज्वलित] १ जला हुआ, प्रती (सूत्र १, ५, १)। २ उज्वल, कान्ति-यु (परए २, ५)। जलिर वि [ज्वलित्] जलता, सुलग (धर्मवि ३५, कुप्र ३७६)। जलूगा } स्त्री [जलौकस्] १ जल-जलूया } विशेष, जोक, जलिका, का कीडा (पउम १, २४, परए १, १) २ पक्षि-विशेष (जीव १)। जलूसग पु [दे] रोग-विशेष (उप ६३२) जलयर न [जलोदर] रोग विशेष, जलम जठराम (सए)। जलयरि वि [जलोदरिन्] जलन्वर रोग पीडित (राज)। जलोया देखो जलूया (जी १५)। जलु पुं [दे जल] १ शरीर का मैल, सु पसीना (सम १०, ४०, श्रौप)। २ नद एक जाति, रस्ती पर खेल करनेवाला (परए २, ४, श्रौप, गाया १, १)। ४ बन्दी, दिख पाठक (गाया १, १)। ५ म्लेच्छ देश। ५ उस देश में रहनेवाली स्त्री जाति (परए १, १—पत्र १४)। जलार पु [जलार] १ स्वनाम-प्रसिद्ध अनार्य देश। २ जलार देश का निव (इक)। जलिय न [दे जलक] शरीर का मैल (२४)। जल्लोसहि स्त्री [दे जल्लोपधि] एक दे की आध्यात्मिक शक्ति, जिसके प्रभाव में श के मैल से रोग का नाश होता है (परए १, विसे ७७६)। जव सक [यापय्] १ गमन करना भेजना। २ व्यवस्था करना। जवइ (ह ४०)। हेइ जवित्तए (सूत्र १, ३, २) कृ जवणिज्ज, जवणीय (गाया १, ५, १, २४८)। जव सक [यापय्] कान-यापन कर पसार करना। जवैति (पिड ६१६)। जव सक [जप्] जाप करना, बार-बार मन ही मन देवता का नाम स्मरण करना पुन पुन मन्त्रीधारण करना। जवइ (रना) तपति तवमणे जवैति मते वहा सुविब्राम

छाया स्त्री [छाया] १ आतप का अभाव, छाँह (पात्र) । २ कान्ति, प्रभा, दीप्ति (हे १, २४६, औप, पात्र) । ३ शोभा (औप) । ४ प्रतिबिम्ब, परछाईं (प्रासू ११४, उत २) । ५ धूप-रहित स्थान, अनातप देश (ठा २, ४) । १ गइ स्त्री [गति] १ छाया के अनुसार गमन । २ छाया के अवलम्बन से गति (परण १६) । १ पास पु [पार्श्व] हिमाचल पर स्थित भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्ति (तो ४५) ।
 छाया स्त्री [दे] १ कीर्ति, यश, ब्याति । २ भ्रमरी, भ्रमरो, भौरी (दे ३, ३४) ।
 छायाइत्तय वि [छायावन्] छायावाला, छायायुक्त । स्त्री १ इत्तिआ (हे २, २०३) ।
 छायाला स्त्री [षट्चत्वारिंशन्] छियालीस, चालीस और छ, ४६ (भग) ।
 छायालीस स्त्रीन ऊपर देखो (सम ६६, कप) ।
 छायालीस वि [षट्चत्वारिंश] छियालीसवाँ, ४६ वाँ (पञ्च ४६, ६६) ।
 छार वि [क्षार] १ पिघलनेवाला, भरनेवाला । २ क्षारा, लवण-रसवाला । ३ पु लवण, नोन, नमक । ४ सजी, सजीखार । ५ गुड (हे २, १७, प्राप्र) । ६ भस्म, भूति (विसे १२५६, स ४४, प्रासू १४५, णाया १, २) । ७ मात्स्यं, असहिष्णुता (जीव ३) ।
 छार पु [दे] अच्छमल्ल, भालुक (दे ३, २६) ।
 छारय देखो छार (आ २७) ।
 छारय न [दे] १ इक्षु-शल्क, ऊख की छाल (६, ३, ३४) । २ मुकुल, कली (दे ३, ३४, पात्र) ।
 छारिय वि [छारिक] क्षार-सम्बन्धी (दस ५, १, ७) ।
 छाल पु [छाग] अज, बकरा (हे १, १६१) ।
 छालिया स्त्री [छागिका] अजा, छागी (सुर ७, ३०, सण) ।
 छाली स्त्री [छागी] ऊपर देखो (प्राभा) ।
 छाव पु [शाव] बालक, बच्चा, शिशु (हे १, २६५, प्राप्र, वव १) ।
 छावण देखो छावण (वृह १) ।
 छावट्टि स्त्री [पट्पाटि] छाळठ, छियासठ, ६६ (सम ७८ विसे २७६१) ।
 छावत्तरी स्त्री [पट्सप्तति] छिहत्तर, सत्तर ४३

और छ ७६ (पञ्च १०२, ८६, सम ८५) ।
 १ म वि [तम] छिहत्तरवाँ (भग) ।
 छावलिय वि [षट्पावलिङ्ग] छ आबलिका-परिमित समयवाला (विसे ५३१) ।
 छासट्ट वि [षट्पट्ट] छियासठवा (पञ्च ६६, ३७) ।
 छासी स्त्री [दे] छाळ, तरु, मट्टा (दे ३, २६) ।
 छासीइ स्त्री [पडशीति] छियासी, अस्सी और छ । १ म वि [तम] छियासीवाँ, ८६ वाँ (पञ्च ८६, ७४) ।
 छाहत्तरि (अप) देखो छावत्तरि (पि २४५) ।
 छाहत्तरि देखो छावत्तरि (पव २३६) ।
 छाहा स्त्री [छाया] १ छाँह, आतप छाहिया का अभाव । २ प्रतिबिम्ब, परछाईं छाही (पड, प्राप, सुर २, २४७, ६, ६५, हे १, २४६, गा ३४) ।
 छाही स्त्री [दे] गगन, आकाश । १ मणि पु [मणि] सूर्य, सूरज (दे ३, २६) ।
 छिअ देखो छीअ (दे ८, ७२, प्राभा) ।
 छिछई स्त्री [दे] असती, कुलटा (हे २, १७४, गा, ३०१, ३५०, पात्र, धर्मरत्न-लघुवृत्तिपत्र ३१, १) ।
 छिछटरमण न [दे] क्रीडा-विशेष, चक्षु-स्थगन को क्रीडा (दे ३, ३०) ।
 छिछय पु [दे] १ देह, शरीर । २ जार, उपपति । ३ न फल-विशेष, शलाकु-फल (दे ३, ३६) ।
 छिछोली स्त्री [दे] छोटा जल-प्रवाह (दे ३, २७, पात्र) ।
 छिड न [दे] १ चूबा, चोटी (दे ३, ३५, पात्र) । २ छत्र, छाता । ३ धूप-यन्त्र (दे ३, ३५) ।
 छिडिआ स्त्री [दे] १ बाढ का छिद्र । २ अपवाद, 'छ छिडिआओ जिणसासणम्मि' (पव १४८, आ ६) ।
 छिडि स्त्री [दे] बाढ का छिद्र (णाया १, २—पत्र ७६) ।
 छिद सक [छिद्] छेदना, विच्छेद करना । छिदइ (प्राप्र, महा) । भवि छेच्छ (हे ३, १७१) । कर्म छिज्जइ (महा) । वट्ट, छिदमाण (णाया १, १) । कवक छिज्जत, छिज्जमाण (आ ६, विपा १, २) । सक

छिदिऊण, छिदिता, छिदित्तु, छिदिय, छेत्तूण (पि ५८५, भग १४, ८, पि ५०६, ठा ३, २, महा) । कृ छिदियव्व (परह २, १) । हेह् छेत्तु (आवा) ।
 छिदण न [छेदन] छेद, खण्डन, कर्तन (श्रोथ १५४ भा) ।
 छिदावण न [छेदन] कटवाना, दूसरे द्वारा छेदन कराना (महानि ७) ।
 छिदाविय वि [छेदित] विच्छिन्न बराया गया (स २२६) ।
 छिपय पु [छिम्पक] कपडा छापने का काम करनेवाला (दे १, ६८, प्राप्र) ।
 छिक्क न [दे] क्षुत्, छोक (दे ३, ३३ कुमा) ।
 छिक्क वि [दे छुत्त] स्पृष्ट, छूआ हुआ (दे ३, ३६, हे २, १३८, से ३, ४६, स ४४४) । १ परोइया स्त्री [प्ररोइया] वनस्पति-विशेष (विसे १७५४) ।
 छिक्क वि [छीत्कृत] छी-छी आवाज मे आहूत, 'पुव्विपि वीरसुणिया छिन्काछिक्का पहावए तुरिय' (श्रोथ १२४ भा) ।
 छिक्कत वि [दे] छोक करता हुआ (सुपा ११६) ।
 छिक्का स्त्री [दे] छिक्का, छोक (स ३२२) ।
 छिक्कारिअ वि [छीत्कारित] छी-छी आवाज से आहूत, अव्यक्त आवाज से बुलाया हुआ (श्रोथ १२४ भा टी) ।
 छिक्किय न [दे] छोकना, छोक करना (स ३२४) ।
 छिक्कोअण वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे ३, २६) ।
 छिक्कोट्टली स्त्री [दे] १ पैर की आवाज । २ पाँव से धान्य का मलना । ३ गोइठा का टुकड़ा, गोवर-खण्ड (दे ३, ३७) ।
 छिक्कोत्तिअ वि [दे] तनु, पतला, कृश (दे ३, २५) ।
 छिक्कोवण [दे] देखो छिक्कोअण (ठा ६—पत्र ३७२) ।
 छिग्ग (शौ) सक [छुप्] छूना । छिग्गदि (प्राक ६३) ।
 छिच्चोलय पु [दे] देखो छिच्चोळ (पात्र) ।
 छिच्चई देखो छिच्चई (पड) ।
 छिच्छय देखो छिच्छय (पड) ।

जिसके पन्ने विशेष लम्बे और कम चौड़े हो
ऐसी पुस्तक (आ ४, २, पव ८०) ।

छिविअ वि [स्पृष्ट] १ छूमा हुआ (दे ३,
२७) २ न. स्पर्श, छूना (से २, ८) ।

छिविअ न [दे] ईख का टुकड़ा (दे ३, २७) ।

छिवोळअ [दे] देखो छिञ्चोळ (गा ६०५
अ) ।

छिञ्च वि [दे] कुन्मि, बनावटी (दे ३,
२७) ।

छिञ्चोळ न [दे] १ निन्दार्थक मुख-विकृणन,
अर्घचि-प्रकाशक मुख-विकार-विशेष । २ विकृ-
णित मुख (दे ३, २८) ।

छिह सक [स्पृश] स्पर्श करना, छूना ।
छिहइ (हे ४, १८२) ।

छिहड न [शिखण्ड] मयूर की शिखा (गाया
१, १—पत्र ५७ टी) ।

छिहडअ पु [दे] दही का बना हुआ मिष्ठान,
दधिसर, गुजराती में जिसे 'सिखंड' कहते हैं
(दे ३, २६) ।

छिहडि पु [शिखण्डिन्] १ मयूर, मोर ।
२ वि मयूरपिच्छ को धारण करनेवाला
(गाया १, १—पत्र ५७ टी) ।

छिहली बी [दे] शिखा, चोटी (बृह ४) ।

छिहा बी [स्पृहा] स्पृहा, अभिलाष (कुमा,
हे १, १२८, षड्) ।

छिहिडिभिन्न न [दे] दधि, दही (दे ३,
३०) ।

छिहिअ वि [स्पृष्ट] छूमा हुआ (कुमा) ।

छीअ बीन [क्षुत] छिन्का, छीक (हे १,
११२, २, १७, औष ६४३, पडि) । बी,
आ (आ २७) ।

छीअमाण वि [क्षुवत्] छीक करता (आचा
२, २, ३) ।

छीण वि [क्षीण] क्षय प्राप्त, कृश, दुर्बल (हे
२, ३, गा ८५) ।

छीयत वि [क्षुवत्] छीक करता (ती ८) ।

छीर न [क्षीर] जल, पानी । २ दुग्ध, दूध
(हे २, १७, गा ५६७) । ३ विराली बी
[विडाली] वनस्पति विशेष, भूमि-कूष्माण्ड
(परण १—पत्र ३५) ।

छीरल पु [क्षीरल] हाथ से चलनेवाला एक
तरह का तनु, साप की एक जाति (परह
१, १) ।

छीवोळअ [दे] देखो छिञ्चोळ (गा ६०३) ।

छु सक [क्षुद्] १ पीसना । २ पीलना ।
कर्म छुबइ (उव) । कवक छुजमाण (संथा
६०) ।

छुअ देखो छीअ (प्राप्र) ।

छुअ देखो छुव । छुअइ (प्राक ७६) ।

छुई बी [दे] बलाका, वकपक्ति (दे ३, ३०) ।

छुछुई बी [दे] कपिकच्छु, केवाँच का पद
(दे ३, ३४) ।

छुछुमुसय न [दे] रणरणक, उत्सुकता,
उत्कण्ठा (दे ३, ३१) ।

छुद वि [आ + क्रम्] आक्रमण करना ।

छुदइ (हे ४, १६०, षड्) ।

छुद सक [दे] बहु, प्रभूत (दे ३, ३०) ।

छुक्कारण न [धक्कारण] धक्कारना,
निदा (बृह २) ।

छुच्छ वि [तुच्छ] तुच्छ, शुद्र, हलका (हे
१, २०४) ।

छुच्छुक्कर सक [छुच्छु + कृ] 'छुच्छु'
आवाज करना, श्वानादि को बुलाने को
आवाज करना । छुच्छुक्करेति (आचा) ।
खुजमाण देखो छु ।

छुट्ट अक [छुट्ट] छूटना, वन्धन-मुक्त होना ।
छुट्टइ (भवि) । छुट्टह (धम्म ६ टी) ।

छुट्ट वि [छुट्टित] छूटा हुआ, वन्धन-मुक्त
(मुपा ४०७, सूक्त ८६) ।

छुट्ट वि [दे] छोटा, लघु (प्राप्र) ।

छुट्टण न [छोटन] छुटकारा, मुक्ति (आ
२७) ।

छुट्ट वि [दे] १ लिप्त । २ क्षिप्त, फेंका हुआ
(भवि) ।

छुडु अ [दे] १ यदि, जो (हे ४, ३८५,
४२२) । २ शीघ्र, तुरन्त (हे ४, ४०१) ।

छुडु वि [क्षुद्र] शुद्र, तुच्छ, हलका, लघु
(औप) ।

छुडुया बी [क्षुद्रिका] आभरण-विशेष
(परह २, ५—पत्र १५६ टी) ।

छुण्ण वि [क्षुण्ण] १ चूर्णित, चूर-चूर किया
हुआ । २ विहत, विनाशित । ३ अभ्यन्त (हे
२, १७, प्राप्र) ।

छुत्त वि [छुत्त] स्पृष्ट, छूमा हुआ (हे २,
१३८, कुमा) ।

छुत्ति बी [दे] छूत, अशौच (सूक्त ८६) ।

छुदहीर पु [दे] १ शशि, वच्चा बालक ।
२ शशी, चन्द्रमा (दे ३, ३८) ।

छुदिया देखो छुडुया (परह २, ५—पत्र
१४६) ।

छुद्व देखो खुद्व (प्राप्र) ।

छुद्व वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (सण) ।

छुध वि [क्षुध] भूखा (प्राक २२) ।

छुन्न पुन [क्षुण्ण] क्लीव, नपुनक (पिड
४२५) ।

छुन्न देखो छुण्ण, 'जतम्मि पावमइणा छुन्ना
छनेए कमेए' (सथा ५६) ।

छुप्पत देखो छुव ।

छुम्भ अक [क्षुम्] क्षुब्ध होना, विचलित
होना । छुम्भति (पि ६६) ।

छुम्भत्थ [दे] देखो छोम्भत्थ (दे ३, ३३) ।

छुम् देखो छुह । छुम्भइ, छुम्भेइ (महा, रयण
२०) । सक्क छुम्भित्ता (पि ६६) ।

छुमा देखो छमा (दत्त १) ।

छुर सक [छुर] १ लेप करना, लीपना ।
२ छेदन करना, छेदना । ३ व्याप्त करना
(वा १२, पत्रम २८, २८) ।

छुर पु [क्षुर] १ छुरा, नपित का अक्ष । २
पशु का नख, छुर । ३ वृक्ष-विशेष,
गोखरु । ४ बाण, शर, तीर (हे २, १७,
प्राप्र) । ५ न तुण-विशेष (परण १) ।
६ धरय न [गृहक] नापित के छुरा वगैरह
रखने की शैली (निच्च १) ।

छुरण न [क्षुरण] अवलेपन (कप्प) ।

छुरमड्डि पु [दे] नापित, हजाम (दे ३, ३१) ।

छुरहत्थ पु [दे] क्षुरहस्त] नापित, हजाम
(दे ३, ३१) ।

छुरिआ बी [दे] मृत्तिका, मिट्टी (दे ३, ३१) ।

छुरिआ } बी [क्षुरिका] छुरी, चाकू (महा,
छुरिगा } मुपा ३८१, स १४७) ।

छुरिय वि [छुरित] १ व्याप्त । २ लिप्त
(पत्रम २८, २८) ।

जाणय वि [ज्ञापक] जननेवाला, समझाने-वाला (श्रौप) ।

जाणया स्त्री [ज्ञान] ज्ञान, समझ, जानकारी, 'एएसि पयाए जाणजाए सबणयाए' (भग) ।

जाणवय वि [ज्ञानपद] १ देश में उत्पन्न, देश-सबन्धी (भग, णाया १, १—पत्र १) ।

जाणाव सक [ज्ञापय] ज्ञान कराना, जनाना । जाणावइ, जाणावेइ (कुमा, महा) । हेऊ. जाणाविउ, जाणावेउ (पि ५५१) । कृ जाणावेयन्व (उप पृ २२) ।

जाणावण न [ज्ञापन] ज्ञापन, बोधन (पउम ११, ८८, सुपा ६०६) ।

जाणावणा } स्त्री [ज्ञापनी] विद्या-विशेष
जाणावणी } (उप पृ ४२, महा) ।

जाणाविय वि [ज्ञापित] जनाना, विज्ञापित, माळूम कराना, निवेदित (सुपा ३५६, श्रावम) ।

जाणि वि [ज्ञानिन्] ज्ञाता, जानकार (कुमा) ।

जाणिअ वि [ज्ञात] जाना हुआ, विदित (सुर ४, २१४, ७, २६) ।

जाणु न [जातु] १ घोढ़, घुटना । २ ऊर और जघा का मध्य भाग (तडु, निर १, ३, णाया १, २) ।

जाणु } वि [ज्ञायक] जाननेवाला, ज्ञाता,
जाणुअ } जानकार (ठा ३, ४, णाया १, १३) ।

जाणे अ [जाने] उत्प्रेक्षा-सूचक अव्यय, मानो (अभि १५०) ।

जाम सक [मृज्] मार्जन करना, सफा करना । जामइ (नाट—प्राप्र ८० टी) ।

जाम पु [याम] १ प्रहर, तीन घण्टा का समय (सम ४४, सुर ३, २४२) । २ यम, अहिमा आदि पाँच व्रत । ३ उन्न विशेष, आठ से बत्तीस, बत्तीस से साठ और साठ से अधिक वर्ष की उन्न (आचा) । ४ वि. यम-सबन्धी, जमराज का (सुपा ४०५) । 'इल्ल वि [वत्] १ प्रहरवाला (हे २, १५६) । २ पु. प्राहरिक, पहरेदार, यामिक (सुपा ५) । 'दिसा स्त्री [दिश] दक्षिण दिशा (सुपा ४०५) । 'वई स्त्री [वती] रात्रि, रात (गउड) ।

जाम देखो जाव = यावत् (आरा ३३) ।

जामाइ देखो जामाइ (पिड ४२४) ।

जामगहण न [यामग्रहण] प्राहरिकत्व, पहरेदारी (सुख २, ३१) ।

जामाइ } पु [जामाट, क] जामाता,
जामाइय } दामाद, लडकी का पति (पउम ८६, ४, हे १, १३१, गा ६८३) ।

जामि स्त्री [जामि, यामि] बहिन, भगिनी (राज) ।

जामिअ देखो जामिग (धर्मवि १३५) ।

जामिग पु [यामिक] प्राहरिक, पहरेआ, पहरे, पहरेदार (उप ८३३) ।

जामिणी स्त्री [यामिनी] रात्रि, रात (उप ७२८ टी) ।

जामिल्ल देखो जामिग (सुपा १४६, २६६) ।
जामेअ पु [यामेय] भानजा, भागिनैय, बहिन का पुत्र (धर्मवि २२) ।

जाय सक [याच्] प्रार्थना करना, माँगना ।
वकृ जायत (परह १, ३) । कवकृ जाइ-ज्जत (पउम ५, ६८) ।

जाय सक [यातय] पीडना, यन्नएा करना । जाएइ (उव) । कवकृ जाइज्जत (परह १, १) ।

जाय देखो जाग (णाया १, १) ।

जाय वि [जात] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो (ठा ६) । २ न समूह, सघात, (दस ४) । ३ भेद, प्रकार (ठा १०, निव्व १६) । ४ वि प्रवृत्त (श्रौप) । ५ पु लडका, पुत्र (भग ६, ३३, सुपा २७६) । ६ न वच्चा, सतान, 'जाय तीए जइ कहवि जायए पुन्न-जोगेण' (सुपा ५६८) । ७ जन्म, उत्पत्ति (णाया १, १) । 'कम्म न [कर्मन्] १ प्रसूति-कर्म (णाया १, १) । २ सस्कार-विशेष (वसु) । 'तेय पु [तेजस्] अग्नि, वहि (सम ५०) । 'निदुडुया स्त्री [निदुत्ता] मृत-वत्सा स्त्री (विपा १, २) । वि मूअ वि [मूक] जन्म से मूक (विपा १, १) । 'रुव न [रुप] १ सुवर्ण, सोना (श्रौप) । २ लुब्ध, चाँदी (उत्त ३५) । ३ सुवर्ण-निर्मित (सम ६५) । 'वेय पु [वेटस्] अग्नि, वहि (उत्त १२) ।

जाय वि [यात] गत, गया हुआ (सूम १, ३, १) । २ प्राप्त (सूम १, १०) । ३ व. गमन, गति (आचा) ।

जाय पु [जात] गीतार्थ, विद्वान् जैन गुण (पव—गाथा २४) ।

जायग वि [याचक] १ माँगनेवाला । २ पु. भिक्षुक (आ २३, सुपा ४१०) ।

जायग वि [याजक] यज्ञ करानेवाला (उत्त २५, ६) ।

जायण न [याचन] याचना, प्रार्थना (आ १४, प्रति ६१) ।

जायण न [यातन] कदर्थन, पीडन (परह १, २) ।

जायणया } स्त्री [याचना] याचना, प्रापना
जायणा } माँगना (उप पृ ३०२, सम ४०, स २६१) ।

जायणा स्त्री [यातना] कदर्थना, पीडा (परह १, १) ।

जायणी स्त्री [याचनी] प्रार्थना की भाषा (ठा ४, १) ।

जायव पु स्त्री [यादव] यदुवय में उल्लभ, यदुवशीय (णाया १, १६, पउम २०, ५६) ।
जाया स्त्री [यात्रा] निर्वाह, गुजारा, वृत्ति ।
'माय वि [मात्र] जितने से निवाह हो सके उतना, 'साहुस्स विंति धीए जाया माय च अम च (पिड ६४३) ।

जाया स्त्री [जाया] स्त्री, औरत, (गा ६, सुपा ३८६) ।

जाया देखो जन्ना (परह २, ४, सूम १, ७) ।
जाया स्त्री [जाता] चमरेन्द्र आदि इन्द्रा वा

वाह्य परिपत् (भग, ठा ३, २) ।
जायाइ पु [यायाजिन्] यज्ञ-कर्ता, यावन,

यज्ञ करानेवाला (उत्त २५, १) ।
जार पु [जार] १ उपपत्ति, यार (हे १, १७७) ।
२ मणिका लक्षण विशेष (जीव ३) ।

जारिच्छ वि [यादक्ष] ऊपर देखो (प्राणा) ।
जारिस वि [यादग] जैसा, जिस तरह का

(हे १, १४२) ।
जारेरुण न [जारेरुण] गोत्र-विरोध, वा

वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७) ।
जाल सक [ज्वालय] जलाना, दग्ध करना

'तो जलियजलएजालावलीनु जानेमि न्दिप' (महा) । लंक जालेनि (महा) ।

शरीर-रचना (सम ४४, १४६, भग, कम्म १, ३६) । २ कर्म विशेष, जिसके उदय से पूर्वोक्त सहनन की प्राप्ति होती है वह कर्म (कम्म १, ३६) ।

छेवाडी [दे] देखो छिवाडी (पव ८०, निचू १२, जीव ३) ।

छेह पु [दे] क्षेप] प्रेरण, क्षेपण, 'तो वध-परिणामोणअभ्रमभावलिख्ममाणविट्ठिच्छेहो' (सि ४, १७) ।

छेहत्तरि (अप) देखो छाहत्तरि (पिंग) ।

छोअ पु [दे] छिलका (सूत्र २, १, १६) ।

छोइअ पु [दे] वास, नौकर (दे ३३) ।

छोइआ ली [दे] छिलका, ईख वगैरह की छाज (उप ७६८ टी), 'उच्छुखडे पत्थिए छोइय पणामेइ' (महा) ।

छोफरी ली [दे] छोफरी, लडकी (कुप्र ५३) ।

छोट्टि ली [दे] उच्छिष्टता, जूठाई (पिंड ५८७) ।

छोड सक [छोट्टय] छोडना, वन्धन से मुक्त करना । छोडइ, छोडेइ (भवि, महा) । सक छोडिवि (सुपा २४६) ।

छोडय वि [दे] छोटा, लघु (वज्जा १६४) ।

छोडाविय वि [छोट्टित] छुडवाया हुआ, वन्धन मुक्त कराया हुआ (स ६२) ।

छोडि ली [दे] छोटी, लघवी, क्षुद्र (पिंग) । छोडिअ वि [छोट्टित] १ छोडा हुआ, वन्धन मुक्त किया हुआ, 'वत्याओ छोडिओ गठी' (सुपा ५०४, स ४३१) । २ घटित, आहत (परह १, ४—पत्र ७८) ।

छोडिअ देखो फोडिअ (श्रीप) ।

छोदूण वि [दे] छोडकर (कुप्र ३१) ।

छोदूण } देखो छुह ।
छोदूण }

छोप वि [स्पृश्य] स्पर्श-योग्य, छूने लायक (आचा २, १५, ५) ।

छोवभ पु [दे] पिशुन, खल, दुर्जन (दे ३, ३३) । देखो छोभ ।

छोवभ वि [क्षोभ्य] क्षोभ योग्य, क्षोभणीय, 'होति सत्तपरिवज्जिया य छाभा (? व्भा) सिप्पकलासमयसत्थपरिवज्जिया' (परह १, ३—पत्र ५५) ।

छोवभत्थ वि [दे] अप्रिय, अनिष्ट (दे ३, ३३) ।

छोवभाइत्ती ली [दे] १ अस्पृश्या, छूने के अयोग्या । २ द्वेष्या, अप्रोतिकर ली (दे ३, ३६) ।

छोभ [दे] देखो छोवभ (दे ३, ३३ टि) । २ निस्सहाय, दीन (परह १, ३—पत्र ५५) ।

३ न अम्यास्थान, कलक-आरोपण, दोपारोप (वृह १, वव २) । ४ न वन्दन-विरोप, दो खमाममण-रूप वन्दन (गुमा १) । ५ प्राघात, 'कोवेण धमवमतो दत्तच्छोभे ये देड सो तम्मि' (महा) ।

छोम देखो छउम (णाय १, ६—पत्र १५७) ।

छोयर पु [दे] छोरा, लडका, छोकरा (उप पृ २१५) ।

छोलिअ देखो छोडिअ = छोट्टित (पिंग) ।

छोल्ल मक [तक्ष] छीलना, छान उतारना । छोल्लइ (पड्) । कर्म छोल्लिज्जतु (हे ४, ३६५) ।

छोल्लण न [तक्षण] छीलना, निस्तुपीकरण, छिलका उतारना (णाय १, ७) ।

छोल्लिय वि [तष्ट] छिलका उतारा हुआ तुप-रहित किया हुआ (उप १७५) ।

छोह पु [दे] १ समूह, दूध, जत्था । २ विक्षेप (दे ३, ३६) । ३ प्राघात, 'ताव य सो मायगो छोह जा देइ उत्तरिज्जम्मि' (महा) ।

छोह पु [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना, 'निर्यादिट्टि-च्छोहअमयवाराहि' (सुपा २६८) ।

छोहर [दे] देखो छोयर (सुपा ५५२) ।

छोहिय वि [क्षोभित] क्षोभ-प्राप्त, घबडाया हुआ, व्याकुल किया गया (उप १३७ टी) ।

॥ इअ सिरिपाइअसइमहणवन्मि छआराइसइसकलणो पचदसमो तरंगो समत्तो ॥

ज

ज पु [ज] तालु-स्थानीय व्यजन वणं विशेष (प्राप्ता, प्राप) ।

ज स [यत्] जो, जो कोई (ठा ३, १, जी ८, कुमा, गा १०६) ।

ज वि [°ज] उत्पन्न, 'आसाइयरससेओ होइ विनेसेण ऐहजो दहणो' (गा ७६६), 'आर-भज' (आचा) ।

जअकार पुं [जयकार] जीत, अभ्युदय (प्राक् ३०) ।

जअड अक [त्वर] त्वरा करना, शीघ्रता करना । जअडइ (हे ४, १७०, पड्) । वकू जअडत (हे ४, १७०) । प्रयो जअडावति (कुमा) ।

जअल वि [दे] छन्न, आच्छादित, ढका हुआ (पड्) ।

जइ पुं [यति] १ साधु, जितेन्द्रिय, सन्यासी (श्रीप, सुपा ४४४) । २ छन्द-शास्त्र में प्रसिद्ध विश्राम स्थान, कविता का विश्राम स्थान (धम्म १ टी) ।

जइ वि [यति] जितना (वव १) ।

जइ अ [यदा] जिस समय, जिस वक्त (प्राप्र) ।

जइ अ [यदि] यदि, जो, अगर (सम १५५,

जिअ अक [जीव] जीना, प्राण-धारण करना । जिअइ, जिअउ (हे १, १०१) । वक जिअत (गा ६१७) ।

जिअ पुं [जीव] आत्मा, प्राणी, जेतन (सुर २, ११३, जी ६, प्रासू ११४, १३०) ।
लोअ पु [लोअ] संसार, दुनियाँ (सुर १२, १४३) ।

जिअ न [जित] जीत, जय (प्राक ७०) ।
गासि वि [गाशिन्] जीत से शोभनेवाला विजेता (सम्मत् २१७) । सत्तु पु [शत्रु] अग-विद्या का जानकार दूसरा ख-पुरुष (विचार ४७३) ।

जिअ वि [जित] १ जीता हुआ, पराभूत, अभिभूत (कुमा, सुर ३, ३२) । २ परिचित (विसे १४७२) । ३ पप वि [आत्मन्] जितेन्द्रिय, सयमी (सुपा २७६) । भाणु पु [भाणु] राक्षस-वश का एक राजा, एक लका-पति (पउम ५, २५६) । भत्तु पु [शत्रु] १ भगवान् अचितनाथ का पिता (सम १५०) । २ गुण-विशेष (महा, विपा १, ५) । सेण पु [सेन] १ जैन आचार्य-विशेष । २ गुण-विशेष । ३ एक चक्रवर्ती राजा । ४ स्वनाम-ख्यात एक कुलकर (राज) । ५ रि पु [रि] भगवान् सभवाणजी का पिता (सम १५०) ।

जिअती बी [जीवन्ती] बल्लो-विशेष (परण १) ।

जिअव वि [जीतवत्] जय-प्राप्त (परह १, १) ।

जिइदिय } वि [जितेन्द्रिय] इन्द्रियो को
जिएदिय } वश में रखनेवाला, संयमी (पउम १४, २६, हे ४, २८७) ।

जिअ सक् [आ] सूचना, गन्व लेना । क जिअणिज्ज (कम्म) ।

जिअण न [आण] सूचना, गन्व-ग्रहण (स ५७७) ।

जिअण बी [आण] ऊपर देखो (श्रोव ३७६) ।

जिअिअ वि [ब्रात] सूँघा हुआ (पास) ।

जिअइ पुन [दे] कन्दुक, गेद, जिअइहेडिआ-इरमण (पव ३८, धर्म २) ।

जिअइ पु [दे] कन्दुक, गेद (पव ३८) ।
जिअ } देखो जभाय । जिअ (अभि
जिभाअ } २४१) । वक जिभाअत (स ११, ३०) ।

जिअिया बी [जुम्भा] जम्माई, जुम्मण, मुख विकास (सुपा ५८३) ।

जिगीसा बी [जिगीषा] जय की इच्छा (कुप्र २७८) ।

जिअइ देखो जिअ । जिअइ (निचू १) ।

जिअिअ वि [दे] ब्रात, सूँघा हुआ (दे ३, ४६) ।

जिअ } देखो जिण = जि ।
जिअमाण }

जिट्ट वि [ज्येष्ठ] १ महान्, बृद्ध, बडा (सुपा २३४, कम्म ४, ८६) । २ अष्ट, उत्तम । ३ पु बडा भाई, जिट्ट व कण्ठि पि हुँ (धर्म २) । ४ भूइ पु [भूति] जैन साधु-विशेष (ती १७) । मूली बी [मूली] ज्येष्ठ मास की पूरणिमा (इक) ।

जिट्ट पुं [ज्येष्ठ] मास-विशेष, जेठ (राज) ।

जिट्टा बी [ज्येष्ठा] १ भगवान् महावीर की पुत्री । २ भगवान् महावीर की भगिनी (विसे २३०७) । ३ नक्षत्र-विशेष (ज १) । देखो जेट्टा ।

जिट्टाणी बी [ज्येष्ठा] बडे भाई की पत्नी, जिठानी या जेठानी (सुपा ४८७) ।

जिट्टिणी बी [ज्येष्ठी] जेठ मास की अमावस (सट्टि ७८ टी) ।

जिण सक [जि] जीतना, वश करना ।

जिणइ (हे ४, २४१, महा) । कर्म जिणि-जइ, जिणइ (हे ४, २४२) । वक जिणत, जिणयत (पि ४७३, पउम १११, १७) ।

कवक जिणज्जाण (उत्त ७, २२) । सक् जिणित्ता, जिणिज्जाण, जिणेऊण, जेऊण, जेऊआण (पि, हे ४, २४१, पइ, कुमा) ।

हेक्क जिणित्त, जेऊं (सुर १, १३०, रंभा) । क जिअ, जिणेयव्य, जेयव्य (उत्त ७, २२, पउम १६, १६, सुर १४, ७६) ।

जिण पु [जिन] १ राग आदि अन्तरंग शत्रुओं को जीतनेवाला, अहंन् वेन, तीर्थंकर (सम १, ठा ४, १, सम्म १) । २ बुद्ध देव, बुद्ध भगवान् (दे १, ५) । ३ केवल-ज्ञानो,

सर्वज्ञ (परण १) । ४ चौदह पूर्व ग्रन्थों का जालकार (उत्त ५) । ५ जैन साधु विदेह, जिणकल्पी मुनि । ६ अनाधि-ज्ञान आदि धर्मोन्द्रिय ज्ञानवाला (पचा ४, ठा ३, ४) । ७ वि जीतनेवाला (पचा ३, २०) । ८ इण पु [इण्ड] अहंन् देव (सुर ४, ८१) । ९ इण पु [इण्ड] एक प्रकार के जैन मुनियों का आचार, चारित्र-विशेष (ठा ३, ४, वृह १) । १० कपिय पु [कपियक] एक प्रकार का जैन मुनि (श्रोव ६६६) । ११ किरिया बी [किरिया] जिनदेव का बतलाया हुआ धर्मानुष्ठान (पव १) । १२ वर न [गृह] जिन-मन्दिर (मग २, ८, राया १, १६—पत्र २१०) । १३ चण पु [चण्ड] १ जिनदेव, अहंन् देव (कम्म ३, १, अजि २६) । २ स्वनाम-ख्यात जैन आचार्य विशेष (सु १२, सण) । ३ जत्ता बी [यात्रा] अहंन् देव की पुजा के उपलक्ष में किया जाता उत्सव-विशेष, रथ-यात्रा (पचा ७) । ४ नाम न [नामन्] कर्म-विशेष जिसके प्रभाव में जीव तीर्थंकर होता है (राज) । ५ दत्त पु [दत्त] १ स्वनाम-प्रसिद्ध जैन-आचार्य विशेष (गण २६, साधं १५०) । २ स्वनाम-रथ एक जैन श्रेणी (पउम २०, ११६) । ३ दूक न [द्रव्य] जिन-मन्दिर-सम्बन्धी धर्ता वस्तु, 'बद्धतो जिणव्व तित्थणत्त प्पहं जीवो' (उप ४१८, दस १) । ४ दास [दास] १ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन राजा (आवु ६) । २ स्वनाम-ख्यात एक जैन धुं और ग्रन्थकार, विशीय-सूत्र का रचण (निचू २०) । ५ देव पु [देव] १ महं देव (सु ७) । २ स्वनाम-प्रसिद्ध जनाप (आक) । ३ एक जैन उपासक (आचू ८) । ४ धम्म पु [धम्म] जिनदेव का वर्ण वर्ण, जैन वर्ण (ठा ५, २, हे १, १८३) । ५ नाह पु [नाथ] जिनदेव, अहंन् (सुपा २३५) । ६ पडिमा बी [पडिमा] अहंन् देव की मूर्ति (राया १, १६—२१०, राय, जीव ३), 'जिणपडिमादव पडिमुद्ध' (दसवू २) । ७ पत्रण न [पत्र चन] जैन धागम, जिनदेव-प्रणीत (विसे १३५०) । ८ पमत्थ नि [पमत्थ तीर्थंकर भावित, जिनदेव-कथित (मद

जपण न [जल्पन] उक्ति, कथन, कहना
(श्रा १२, गउड) ।

जपण न [दे] १ अकीर्ति, अपयश । २ मुख
मुंह (दे ३, ५१, भवि) ।

जपय वि [जल्पक] बोलनेवाला, भाषक
(पह १, ३) ।

जपाण न [जम्पान] १ वाहन-विशेष, सुखा-
सन, शिविका विशेष (ठा ४, ३, श्रौप, सुपा
३६३, उप ६५६) । २ मृतक-यान, शव-यान
(सुपा २१६) ।

जपिच्छय वि [दे] जिसको देखे उसी को
चाहनेवाला (दे ३, ४४, पात्र) ।

जपिय वि [जल्पित] कथित, उक्त (प्रासू
१३०) ।

जंपिय देखो जप ।

जपिर वि [जल्पित] १ जल्पाक, वाचाट
(दे २, ६७) । २ बोलनेवाला, भाषक (हे
२, १४५, श्रा २७, गा १६२, सुपा ४०२) ।

जपेच्छिरमगिर } वि [दे] जिसको देखे
जपेच्छिरमगिर } उसी की याचना करने-
वाला (पड, ३, ४४) ।

जवर्षी स्त्री [जाम्बवती] श्रीकृष्ण की एक
पत्नी (अत १४, आत् १) ।

जववत पु [जाम्बवत्] एक विद्याधर
राजा (कुप्र २५६) ।

जवाल न [दे] १ जवाल, सैवाल, जलमल,
सिवार या सेवार (दे ३, ४२, पात्र) ।

जवाल पुन [जम्वाल] १ कर्दम, कांदो, पक
(पात्र, ठा ३, ३) । २ जरायु, गर्भ-त्रेष्टन चर्म
(सूत्र १, ७) ।

जवीरिय (अप) न [जम्वीर] नीवू या नीवू,
फल विशेष (सरा) ।

जवु पु [जम्बु] १ जम्बुक, सियार, 'उद्ध-
हुद्धयजकुण' (पउम १०५, ५७) । २ एक
प्रसिद्ध जैन मुनि, सुषर्म-स्वामी के शिष्य,
अन्तिम केवली (कप्प, वसु, विपा १, १) । ३
न जम्बू वृक्ष का फल, जामुन (श्रा ३६) ।

जवु पुन [जम्बु] जम्बू वृक्ष का फल, जामुन,
ते विति जवू भक्खेमो' (सवाष ४७) ।

जवु' देखो जवू (कप्प, कुमा, इक' पउम ५६,
२२, से १३, ६६) ।

जवुअ पु [दे] १ वेतस वृक्ष, वेंत । २ पश्चिम
दिक्पाल (दे ३, ५२) ।

जवुअ } पु [जम्बुक] १ सियार, गीदह
जवुग } (प्रासू १७१, उप ७६६ टी, पउम
१०५, ६४) । २ न जम्बूवृक्ष का फल,
जामुन (सुपा २२६) ।

जवुल पु [दे] १ वानीर वृक्ष, वेंत । २ न
मद्यभाजन, सुरापात्र (दे ३, ४१) ।

जवुह वि [दे] जल्पाक, वाचाट, बकवादी
(पात्र) ।

जवुवई देखो जववई (अत, पडि) ।

जवू स्त्री [जम्बू] १ वृक्ष विशेष, जामुन
का पेड़ (राया १, १, श्रौप) । २ जवू वृक्ष
के आकार का एक रत्नमय शाश्वत पदार्थ,
सुदर्शना, जिसके कारण यह द्वीप जवूद्वीप
कहलाता है (ज १) । ३ पु एक सुप्रसिद्ध
जैन मुनि, सुषर्म-स्वामी का मुख्य शिष्य (ज
१) । °दीव पु [°द्वीप] भूखण्ड विशेष,
सब द्वीप और समुद्रों के बीच का द्वीप, जिसमें
वह भारत आदि क्षेत्र वर्तमान है (ज १,
इक) । °दीवग वि [°द्वीपक] जम्बूद्वीप-
सन्धी, जम्बूद्वीप में उत्पन्न (ठा ४, २, ६) ।

°दीवपणत्ति स्त्री [°द्वीपप्रज्ञप्ति] जैन
आगम-ग्रन्थ-विशेष, जिसमें जवूद्वीप का वर्णन
है (ज १) । °पीढ, °पेढ न [°पीठ]
सुदर्शना-जम्बू का अविष्टान-प्रवेश (ज ४,
इक) । °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (इक) ।

°मालि पु [°मालिन्] रावण का एक पुत्र,
रावण का एक सुभट (पउम ५६, २२, से
१३, ६६) । °मेघपुर न [°मेघपुर] विद्या-
धर-नगर-विशेष (इक) । °सड पु [°षण्ड]
ग्राम-विशेष (आवम) । °सामि पु [°स्वामिन्]
सुप्रसिद्ध जैन मुनि-विशेष (आवम) ।

जवूअ पु [जम्बूक] सियार, गीदह (श्रोष
६४ भा) ।

जवूणय न [जाम्बूनद] १ सुवर्ण, सोना
(सम ६५, पउम ५, १२६) । २ पु स्वनाम-
प्रसिद्ध एक राजा (पउम ५६, ६६) ।

जवूलय पुन [जम्बूलक] उदक-भाजन-विशेष
(उवा) ।

जभ पु [दे] तुप, भूसा, धान्य वगैरह का
छिलका (दे ३, ४०) ।

जभंत देखो जंभा = जृम् ।

जभग वि [जृम्भक] १ जंभाई लेनेवाला ।
२ पु व्यन्तर-देवों की एक जाति (कप्प,
सुपा ४०) ।

जभणभण } वि [दे] स्वच्छन्द-भापी, जो
जभणभण } मरजी में श्रावे वह बोलने-
जभणय } वाला (पड, दे ३, ४४) ।

जभणी स्त्री [जृम्भणी] तन्न-प्रसिद्ध विद्या-
विशेष (सूत्र २, २, पउम ७, १४४) ।

जभय देखो जभग (राया १, १, अत, भग
१४, ८) ।

जभल पु [दे] जड, सुस्त, मन्द (दे ३, ४१) ।

जभा स्त्री [जृम्भा] जंभाई, जृम्भण (विपा
१,) ।

जभा स्त्री [जृम्भा] एक देवी का नाम
(सिरि २०३) ।

जभा } अक [जृम्भ] जंभाई लेना ।
जभाअ } जभाइ, जभाअइ (हे ४, १५७,
२४०, प्राप्र, पड) । वृक्ष जभत, जभाअत
(गा ५४६, से ७, ६५, कप्प) ।

जंभाइअ न [जृम्भित] जंभाई, जृम्भा
(पडि) ।

जभिय न [जृम्भित] १ जंभाई जृम्भा । २
पु ग्राम-विशेष, जहाँ भगवान् महावीर को
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था, यह गाँव पारस-
नाथ पहाड़ के पाम की ऋजुवालिका नदी के
किनारे पर था (कप्प) ।

जक्ख पु [यक्ष] १ व्यन्तर देवों की एक
जाति (पह १, ४, श्रौप) । २ घनेश, कुवेर,
यक्षाधिपति (प्राप्र) । ३ एक विद्याधर-राजा,
जो रावण का मौसिरा भाई था (पउम ८,
१०२) । ४ द्वीप-विशेष । ५ समुद्र-विशेष
(चंद १६) । ६ श्वान, कुत्ता, 'अह प्रायविरा-
हणया उक्खुल्लिहणे पवयणम्मि' (श्रोष १६३
भा) । °कहम पु [°कहम] १ केसर, अगूर,
चन्दन, कपूर और कस्तूरी का समभाग मिश्रण
(भवि) । २ द्वीप-विशेष । ३ समुद्र-विशेष
(चंद २०) । °ग्गह पु [°ग्रह] यक्षावेश,
यक्षकृत उपद्रव (जीव ३, ज २) । °णायग
पु [°नायक] यक्षों का अधिपति, कुवेर
(अणु) । °दित्त न [°दीप्त] देखो नीचे
°दित्तय (पव २६) । °दिज्जा स्त्री [°दित्ता]
महर्षि स्थूलभद्र की बहिन, एक जैन साध्वी

जिव देखो जीव, 'मामाद् अह भण्णो कायव्वा वच्छ जिवदया तुमए' (धर्मवि ५)।

जिवे } (अप) देखो जिध (कुमा, पड, हे जिह } ४, ३३७)।

जिहा देखो जीहा (पड)।

जीअ देखो जीव = जीव् । जीअइ (गा १२४, हे १, १०१) । वहु. जीअत (से ३, १२, गा ८१६)।

जीअ देखो जीव = जीव (गउड) । ५ पानी, जल (से २, ७)।

जीअ देखो जीविअ (हे १, २७१, प्राप्, सुर २, २३०)।

जीअ न [जीत] १ आचार, रिवाज, प्रथा, लडि (श्रीप, राय, सुपा ४३)। २ प्रायवित से सम्बन्ध रखनेवाला एक तरह का रिवाज, जैन सूत्रो मे उक्त रीति से भिन्न तरह के प्रायश्चित्तो का परम्परागत आचार (ठा ५, २)। ३ आचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ (ठा ५, २, वव १)। ४ मर्यादा, स्थिति, व्यवस्था (एदि)। ०कप्प पु [०कल्प] १ परम्परा से आगत आचार। २ परम्परागत आचार का प्रतिपादक ग्रन्थ (पचा ६, जीत)। ०कटिपय वि [०कल्पिक] जीत कल्पवाला (ठा १०)। ०धर वि [०धर] १ आचार-विशेष का जानकार। २ स्वनाम-ख्यात एक जैनाचार्य (एदि)। ०ववहार पु [०व्यवहार] परम्परा के अनुसार व्यवहार (धर्म २, पंचा १६)।

जीअण देखो जीवण (नाट-चैत २५८)।

जीअव वि [जीवितवत्] जीवितवाला, श्रेष्ठ जीवनवाला (परह १, १)।

जीआ ली [ज्या] १ षणुप की डोर (कुमा)। २ पृथिवी, भूमि। ३ माता, जननी (हे २, ११५, षड्)।

जीण न [दे. अजिन] जीन, अश्व की पीठ पर विछाया जाता चर्ममय आसन (पच ८४)।

जीमूअ पु [जीमूत्] १ मेघ, वर्षा (पाम्-गउड)। २ मेघ-विशेष, जिसके बरसने से जमीन दश वर्ष तक चिकनी रहती है (ठा ४, ४)।

जीर° देखो जर = ज्।

जीरण न [जीर्ण] १ अन्न पाक। २ वि. पुराना, पचा हुआ, 'अजीरण' (पिंड २७)।

जीरय न [जीरक] जीरा, मसाला-विशेष (सुर १, २२)।

जीरव सक [जीरय्] पचाना। जीरवइ (कुप्र २६६)।

जीव अक [जीव्] १ जीना, प्राण धारण करना। २ सक आश्रय करना। जीवइ (कुमा)। वहु. जीवत, जीवमाण (विपा १, ५, उप ७२८ टी)। हेऊ जीविउ (आचा)। सक जीविअ (नाट)। कृ जीविअञ्च, जीवणिञ्ज (सुप्र १, ७)। प्रयो. जीवावेहि (पि ५५२)।

जीव पुंन [जीव] १ आत्मा, चेतन, प्राणी (ठा १, १, जी १, सुपा २३५), 'जीवाइ' (पि ३६७)। २ जीवन, प्राण-धारण, 'जीवोत्ति जीवण पाणधारणं जीवियत्ति पज्जाया' (विसे ३५०८, सम १)। ३ पुं. बृहस्पति, सुर-गुर (सुपा १०८)। ४ बल, पराक्रम (भग २, १)। ५ देखो जीअ = जीव। ०काय पु [०काय] जीव-राशि, जीव समूह (सुप्र १, ११)। ०ग्गाह न [०ग्राह] जिन्दे को पकडना (याया १, २)। ०णिकाय पु [०निकाय] जीव-राशि (ठा ६)। ०स्थिकाय पु [०स्थिकाय] जीव-समूह, जीव-राशि (भग १३, ४, अणु)। ०दय वि [०दय] जीवित देनेवाला (सम १)। ०दया ली [०दया] प्राणि-दया, दु खो जीव का दु ख से रक्षण (महानि २)। ०देव पु [०देव] स्वनाम-ख्यात प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रथकार (सुपा १)। ०पएस पुं [प्रदेशजीव] अन्तिम प्रदेश में ही जीव की स्थिति को माननेवाला एक जैनाभास दार्शनिक (राज)। ०पएसिय पु [०प्रादेशिक] देखो पूर्वोक्त अर्थ (ठा ७)। ०लोग, ०ल्य पुं [०लोक] १ जीव-जाति, प्राणि-लोक, जीव-समूह (महा)। ०विजय न [०विचय] जीव के स्वरूप का चिन्तन (राज)। ०विभक्ति ली [०विभक्ति] जीव का भेद (उत्त ३६)। ०वुड्ढिय न [०वृद्धिक] अनुज्ञा, संमति, अनुमति (एदि)।

जीव न [जीव] सात दिन का लगता उपवास (सवोष ५८)। ०विसिट्ट न [०विशिष्ट] वही अर्थ (सवोष ५८)।

जीवजीव पु [जीवजीव] १ जीव-बल, ब्रह्म-पराक्रम (भग २, १)। २ चकोर-पत्नी, चकवा (राज)।

जीवत देखो जीव = जीव् । ०मुक्क पु [०मुक्क] जीवन्मुक्त, जीवन-दशा में ही ससार बन्धन से मुक्त महात्मा (अच्छ ४७)।

जीवग पु [जीवक] १ पक्षि-विशेष (श्व ५८०)। २ नृप-विशेष (तित्थ)।

जीवजीवग पु [जीवजीवक] चकोर पत्नी, चकवा (परह १, १—पत्र ८)।

जीवण न [जीवन] १ जीना, जिन्दगी (विसे ३५२१, पचम ८, २५०)। २ जीविका, आजीविका (स २२७, ३१०)। ३ वि जिलानेवाला (राज)। ०चित्ति ली [०वृत्ति] आजीविका (उप २६४ टी)।

जीवमजीव पु [जीवाजीव] चेतन और नव पदार्थ (आधम)।

जीवन्मुत्त देखो जीवत मुक्क (उवर १६१)। जीवयमई ली [दे] मुगो के आकषण के साधन-भूत व्याघ-मुगी (दे ३, ४६)।

जीवा ली [जीवा] १ षणुप की डोरी (स ३८४)। २ जीवन, जीना (विसे ३५२१)। ३ क्षेत्र का विभाग विशेष (सम १०४)।

जीवाउ पु [जीवाउ] जिलानेवाला शीषण, जीवनौपध (कुमा)।

जीवाविय वि [जीवित] जिलाया हुआ (श्व ७६८ टी)।

जीवि वि [जीविन्] जीनेवाला (गा ८४७)।

जीविअ वि [जीवित] १ जो जिन्दा हो। २ न जीवित, जीवन, जिन्दागी (हे १, २७)। प्राप्। ०नाह पु [०नाथ] प्राण-पति (सुपा ३१५)। ०रिसिका ली [०रिसिक] वनस्पति-विशेष (परह १—पत्र ३६)।

जीविआ ली [जीविका] १ आजीविका, निर्वाह साधक वृत्ति (ठा ४, २, स २१६, याया १, १)।

जीविओसविय वि [जीवितोसविय] जीवन मे उत्सव के तुल्य, जीवनोत्सव के समान (भग ६, ३३, राय)।

जड पु [दे] पुष्प, मरद, आदमी (दे ३, १०)।

जड वि [जाड] १ उत्तम जातवाला, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर (एयाया १, १, आ १२, सपा ७७, कप्प)। २ स्वामाविक, अकृत्रिम (ट्टु)। ३ सजातीय, विजाति-मिश्रण से रहित, शुद्ध (जीव ३)।

जडण न [जात्याञ्जन] १ श्रेष्ठ अञ्जन, सुन्दर अञ्जन (एयाया १, १)। २ मर्दित अञ्जन, तैल वगैरह से मर्दित अञ्जन (कप्प)।

जडण न [दे] १ अग्रह, सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो धूप के काम में आता है। २ कुकुम, केसर (दे ३, ५२)।

जडध वि [जात्यन्ध] जन्म से अन्धा, जन्माध (सुपा ३६५)।

जडधिणिय वि [जात्यन्धित] सुकुल में जडधिय १ उत्पन्न, श्रेष्ठ जाति का (सुअ १, १०, बृह ३)।

जडास पु [जात्यन्ध, जात्यान्ध] उत्तम जाति का घोडा (पउम ५४, २६)।

जडिय (अप) वि [जातीय] समान जाति का (सए)।

जडिर न [यडिर] जहाँ तक, जितने समय तक (वव ७)।

जड्छ सक [यड्] १ उपरम करना, विराम करना। २ देना, दान करना। जड्छइ (हे ४, २१५, कुमा)।

जड्छ पु [यड्मन्] रोग-विशेष, यक्ष्मा, क्षय-रोग (प्राक २२)।

जड्छद वि [दे] स्वच्छन्द, स्वैर (दे ३, ४३, पड्)।

जड देखो जड = यज् । वड् जजमाण (नाट—शकु ७२)।

जडु देखो जड = यजुष् (एयाया १, ५, भग)

जज वि [जज्य] जो जीता जा सके वह जीतने को शक्य (हे २, २४)।

जजर वि [जर्जर] जीरां, सच्छिद्र, खोखला, जाजर, मांकरा या मांकर (गा १०१, सुर ३, १३६)।

जजर सक [जर्जर्य] जीरां करना, खोखला करना। कवक जजरिज्जत, जजरिज्जमाण (नाट—चैत ३३, सुपा ६४)।

जजरिय वि [जर्जरित] जीरां किया गया, खोखला किया हुआ, पुराना (ठा ४, ४, सुर ३, १६५, कस)।

जज्जिग पु [जजियक] एक जैन आचार्य का नाम (ती १५)।

जज्जिय } न [यावज्जीव] जीवन-पर्यन्त,
जज्जीव } जिन्दगी भर, 'जज्जीव अहिगरण (पिड ५०६, ५१२)।

जट्ट पु [जर्त] १ देश-विशेष (भव)। २ उस देश का निवासी (हे २, ३०)।

जट्ट वि [इट्ट] यजन किया हुआ, याग किया हुआ (स ५५)।

जट्ट न [इट्ट] यजन, याग, यज्ञ (उत्त १०, ४०, २५, ३०)।

जट्टि वी [यट्टि] लकड़ी, 'जट्टियुट्टिलउडपहा-रेहि' (महा, प्राप्र)।

जड वि [जड] १ अचेतन, जीव रहित पदार्थ। २ मूर्ख, आलसी, विवेक-शून्य (पाम्र, प्रासू ७१)। ३ शिशिर, जाडे से ठंडा होकर चलने को अशक्त (पाम्र)।

जड देखो जड (पड्)।

जड } वी [जटा] सटे हुए बाल, मिले हुए
जडा } बाल (हेका २५७, सुपा २५१)।

जडर वि [वर] १ जडा को धारण करने-वाला। २ पु जडाधारी तापस, सन्यासी (पउम ३६, ७५)। ३ धारि पु [धारिन्] देखो पूर्वोक्त अर्थ (पउम ३३, १)।

जडहारि देखो जड धारि (कुप्र २६३)।

जडाउ } पु [जटायु] स्वनाम-प्रसिद्ध गृद्ध
जडाउण } पक्षि-विशेष (पउम ४४, ५५, ४०)।

जडागि पु [जटाकिन्] ऊपर देखो (पउम ४१, ६५)।

जडाव वि [जटावत्] जटा-युक्त, जटाधारी (हे २, १४६)।

जडासुर पु [जटासुर] असुर-विशेष (वेणी १७७)।

जडि वि [जटिन्] १ जटावाला, जटायुक्त। २ पु जटाधारी तापस (श्रौप, भत्त १००)।

जडिअ वि [जटिक] देखो जडि (कुप्र २६३)।

जडिअ वि [जटित] पिहित, ढका हुआ (सिदि ५१६)।

जडिअ वि [दे. जटित] जडित जडा हुआ, खचित, सलमन (दे ३, ४१, महा, पाप्र)।

जडिम पुंत्री [जडिमन्] जडता, जडपन, जाड्य (सुपा ६)।

जडियाइलगा } पु [दे जटिमाटिलक] ग्रह-
जडियाइलय } विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३, चन्द २०)।

जडिल वि [जटिल] १ जटावाला, जटा-युक्त (उवा, कुमा २, ३५)। २ व्याप्त, खचित, 'उल्लासियवहलजालोलिजडिले जलणे पवेमो वा' (सुपा ४६५)। ३ पु सिंह, केमरी, ४ जटाधारी तापस (हे १, १६४, भग १, ५५ ६४)।

जडिलय पु [दे. जटिल] राहु, गन्धि (सुज २०)।

जडिलिय } वि [जटिलित] जटिल कि ॥
जडिलिलि } हुआ, जटा-युक्त किया हुआ (सुप. १२५, २६६)।

जडिलि वि [जटिन्] जटावाला, जटाधारी (चड)।

जगुल देखो जडिल (भग १५—पत्र ६७०)।

जडु वि [दे] अशक्त, असमर्थ (पव १०७)।

जडु न [जाड्य] जडता, जडपन (उप ३२० टी, सार्ध १३०)।

जडु देखो जड (पव १०७, पचभा)।

जडु पु [दे] हाथी, हस्ती (श्रौघ २३= बृह १)।

जडु वी [दे] जाडा, शीत (सुर १३, २१५, पिण)।

जड वि [रियक्त] परित्यक्त, मुक्त, वर्जित (४, २५८, श्रौघ ६०), 'जडवि न सम्मत्तजणे सत्त ७१ टी)।

जडर } न [जडर] पेट, उदर (हे १, २५४;
जडल } प्राप्र. षड्)।

जण सक [जनय्] उत्पन्न करना, पैदा करना। जणइ, जणवि (प्रासू १५, १०८ महा)। जणयति (आचा)। वड् जणत, जणोमाण (सुर १३, २१, द्र ३६, उव)।

जग पु [जन] १ मनुष्य, मानव, आदमी, लोग, व्यक्ति (श्रौप, आचा, कुमा, प्रासू ६,

जणहली स्त्री [दे] नीवी, नारा, इजारवन्द
- (दे ३, ४०) ।
जणहवी स्त्री [जाहवी] १ सगर चक्रवर्ती
की एक पत्नी, भगीरथ की जननी (पउम
५, २०१) । २ गङ्गा-नदी, भागीरथी (पउम
४१, ५१; कुमा) ।
जणहु पु [जहु] भरत-वशीय एक राजा
(प्राप्र, हे २, ७५) । सुआ स्त्री [सुता]
गङ्गा-नदी, भागीरथी (पाप्र) ।
जणहुआ स्त्री [दे] जानु, घुटमा (पाप्र) ।
जणहुकन्या स्त्री [जहु कन्या] गंगा-नदी
(कुप्र ६६) ।
जत्त देखो जय = यत् । भवि जत्तिहामि
(निर १, १) ।
जत्त पु [यत्त] उद्योग, उद्यम, चेष्टा (उप
पृ ५८) ।
जत्ता स्त्री [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन
(ठा ४, १, औप) । २ गमन, गति, 'जत्तति
होइ गमण' (पचभा, औप) । ३ देव-पूजा के
निमित्त किया जाता उत्सव-विशेष, अष्टाहिका,
रथ-यात्रा आदि, 'हु नाय पारद्धा सिद्धाययणेषु
जत्ताओ' (सुर ३, ३८) । ४ तीर्थ-गमन,
तीर्थ-भ्रमण (धर्म २) । ५ शुभ-प्रवृत्ति (भग
१८, १०) ।
जत्ता स्त्री [यात्रा] समय-निर्वाह (उत्त
१६, ८) ।
जत्ति स्त्री [दे] १ चिन्ता । २ सेवा, मुश्रूषा,
'अजाणणएए तज्जती न कया तम्मि केणए'
(आ २८) ।
जत्तिअ देखो यत्तिअ (उवा २० टि) ।
जात्तय वि [यावत्] जितना (प्रासू १५६,
भावम) ।
जत्तो देखो जओ (हे २, १६०) ।
जत्थ अ [यत्त] जहाँ, जिसमें (हे २, १६१,
प्रासू ७६) ।
जदि देखो जइ = यदि (निचू २) ।
जदिच्छा देवो जइच्छा (बृह ३, मा १२) ।
जटु देखो जउ = यदु (कुमा, ठा ८) ।
जहर पुन [दे] वस्त्र-विशेष (सम्मत्त २१८,
२१९) ।
जघा देखो जहा (ठा २, ३, ३, १) ।

जज्ज देखो जण (परह १, २, ४, पउम
११, ४६) ।
जज्ज वि [जज्य] १ जन-हित, लोक-हितकर
(सुप्र २, ६, २) । २ उत्पन्न होने योग्य
(धर्मस २८०) ।
जज्जत्ता } स्त्री [दे] वरात, गुजराती में 'जान'
जज्जा } (सुपा ३६६, उप ७६८ टी) ।
जज्जसेणी देखो जणसेणी (पार्थ ४) ।
जज्जु देखो जाणु (पउम ६८, १०) ।
जज्जोवइय देखो जणोवइय (सुल २, १३) ।
जज्जोवइय देखो जणोवइय (राया १,
१६—पत्र २१३) ।
जज्जुवो देखो जणुवो (ठा ६, ६) ।
जज्जु देखो जव = जप् (पड्) ।
जज्जि वि [जजित्] जाप करनेवाला (पड्)
जज्जु देखो जप । जज्जु (पड्) । जज्जति
(पि २६६) ।
जज्जु पुं [जज्जु] १ उक्ति, कथन । २ छल
का उपालम्भ रूप भाषण (राज) ।
जज्जु वि [याज्य] गमन कराने योग्य ।
ज्जाण न [यान] वाहन-विशेष, शिविका
(दे ६, १२२) ।
जज्जुभिइ } अ [यत्प्रभृति] जव से, जहाँ से
जज्जुभिइ } लेकर (राया १, १, कप्प) ।
जज्जिअ वि [जजित्त] १ उक्त, कथित
(प्राप) । २ न उक्ति, वचन (अचु २) ।
जज्जु सक [यज्य] १ कावू में रखना,
नियन्त्रण करना । २ जमाना, स्थिर करना ।
जज्जु (से १०, ७०) । संकृ जज्जुत्ता
(औप) ।
जज्जु पुं [यज] १ आर्हिसादि पाँच महाव्रत,
साधु का व्रत (राया १, ५, ठा २, ३) ।
२ दक्षिण दिशा का एक लोकपाल, देव-
विशेष, जम देवता, जमराज (परह १, १,
पाप्र, हे १, २४५) । ३ भरणी नक्षत्र का
अधिपति देव (सुज्ज १०) । ४ किज्जिन्धा
नगरी का एक राजा (पउम ७, ४६) । ५
तापस-विशेष (भावम) । ६ मृत्यु, मौत (भाव
४, महा) । ७ समयन, नियन्त्रण (भावम) ।
ज्जुइय पु [कायिक] असुर-विशेष, परमा-
धार्मिक देव, जो नारकी के जीवो को दुःख
देते हैं (परह १, १) । 'घोस पु [वोष]

ऐरवत वर्ष के एक भावी जिन-देव (पव ७) ।
'पुरी स्त्री [पुरी] जम की नगरी, मोत का
स्थान, 'को जमपुरीसमाणे सममाणे एव-
मुल्लवइ' (सुपा ४६२) । 'पपभ पु [प्रभ]
यमदेव का उत्पात-पर्वत, पर्वत-विशेष (ठा
१०) । 'भड पु [भट] यमराज का सुभट
(महा) । 'मदिर न [मन्दिर] यमराज का
घर, मृत्यु म्यान (महा) । 'लय न [लय]
पूर्वोक्त ही अर्थ (पउम ४५, १०) ।
जमग पु [यमक] १ पक्षि-विशेष । देव-
विशेष (जीव ३) । ३ पर्वत-विशेष (जीव ३,
सम ११४, इक) । ४ दह-विशेष, दह, भील
(जीव ३, इक) । देखो जमय ।
जमग } अ [दे] एक साथ, एक ही
जमगसमग } समय में, युगपत् (धम्म ११
टी, राया १, ४, औप, विपा १, १) ।
जमणिया स्त्री [जमनिका] जैन साधु का
उपकरण-विशेष (राज) ।
जमदग्गि पु [जमदग्नि] तापस-विशेष, इस
नाम का एक सन्यासी, परशुराम का पिता
(पि २३७) ।
जमदग्गिजडा स्त्री [यमदग्निजटा] गन्ध-
द्रव्य-विशेष, सुगन्धवाला (उत्तनि ३) ।
जमय देखो जमग ५ न अलकार शास्त्र में
प्रसिद्ध अनुप्रास-विशेष । ६ छन्द-विशेष (पिंग) ।
जमल न [यमल] १ जोडा, युग्म, युगल
(राया १, १, हे २, १७३, से ५, ५६) ।
२ समान श्रेणि में स्थित, तुल्य पक्तिवाला
(राय) । ३ सहवर्ती, सहचारी (भग १५) ।
४ समान, तुल्य (राय, औप) । 'उजुणभजग
पुं [जुणभजक] श्रीकृष्ण वासुदेव (परह
१, ४) । 'पद, 'पय न [पद] १ प्राय-
श्चित्त-विशेष (निचू १) । २ आठ अक्रो की
सख्या (परण १२) । 'पाणि पुं [पाणि]
मुष्टि, मुट्टी (भग १६, ३) ।
जमलिय वि [यमलित] १ युग्म रूप से
स्थित (राय) । २ सम-श्रेणि रूप से अवस्थित
(राया १, १, औप) ।
जमलोइय वि [यमलौकिक] १ यमलोक-
सम्बन्धी, यमलोक से सम्बन्ध रखनेवाला ।
२ परमाधार्मिक देव, असुरो की एक जाति
(सुप्र १, १२) ।

जेत्त देखो जइत्त (पि ६१)।

जेत्तिअ } वि [यावत्] जितना (हे २,
जेत्तिल } १५७, गा ७१, गडड)।

जेत्तिक (शौ) ऊपर देखो (प्राक् ६५)।

जेत्तुल } (अप) ऊपर देखो (हे ४, ४३५)।
जेत्तुल }

जेहह देखो जेत्तिअ (हे २, १५७, प्राप्र)।

जेम सक [जिम्, भुज्] भोजन करना।

जेमइ (हे ४, ११०, षड्)। वक्क जेमत्त
(पउम १०३, ८५)।

जेम (अप) अ [यथा] जैसे, जिस तरह से
(सुपा ३८३, भवि)।

जेमण } न [जेमन्] जीमन, भोजन (श्रोघ
जेमणग } ८८ श्रौप)।

जेमणय न [दे] दक्षिण अग, गुजराती मे
'जमणु' (दे ३, ४८)।

जेमणी स्त्री [जेमनी] जीमन (सवोघ
१७)।

जेमावण न [जेमन] भोजन कराना, खिलाना
(भग ११, ११)।

जेमाविय वि [जेमित] भोजित, जिसको
भोजन कराया गया हो वह (उप १३६ टी)।

जेमिय वि [जेमित] जीमा हुआ, जिसने
भोजन किया हो वह (राया १, १—पत्र
४१ टी)।

जेयव्व देखो जिण = जि।

जेव (शौ) देखो एव = एव (रभा, कप्पु)।

जेव्वे (अप) देखो जिव्वे (हे ४, ३६७)।

जेवड (अप) देखो जेत्तिअ (हे ४, ४०७)।

जेव्व (शौ) देखो एव = एव (पि, नाट)।

जेह (अप) वि [याहश्] जेसा (हे ४,
४०२, षड्)।

जेहिल पु [जेहिल] स्वनाम ख्यात एक जैन
मुनि (कप्प)।

जो } सक [हश्] देखना। जोइ (सण),
जोअ } 'एसा ह् वकवक, जोयइ तुह सुसुह
जेण' (सुर ३, १२६)। जोयति (स ३६१)।

कर्म. जोइब्बइ (रयण ३२)। वक्क जोअंत
(धम्म ११ टी, महा, सुर १०, २४४)।

कवक्क जोइब्बत्त (सुपा ५७)।

जोअ अक [द्युत्] प्रकाशित होना, चम-

कना। जोइ (कुमा)। भूका जोइसु
(भग)। वक्क °जोअंत (कुमा, महा)।

जोअ सक [द्योतय्] प्रकाशित करना।

जोयइ (सूय १, ६, १३), 'तस्सवि य

गिह पुण वात्तपडिया जोयए दुहिया' (सुपा

६११)। जोएज्जा (विसे ६१२)।

जोअ सक [योजय्] १ समाप्त करना,

खतम करना। २ करना। जोएइ (सुज्ज

१०, १२—पत्र १८०, १८१, सुज्ज १२—

पत्र २३३)।

जोअ सक [योजय्] जोडना, युक्त करना।

जोएइ (महा)। वक्क जोइयव्व, जोएअव्व

जोयणिय, जोयणिज्ज (उप ५६६, स

५६८, श्रौप, निच्च १)।

जोअ पु [दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे ३, ४८)।

२ युगल, युग्म (राया १, १ टी—पत्र

४३)।

जोअ देखो जोग (अवि २५, स ३६१,

कुमा)। °वडय न [वटक्] चूर्ण-विशेष,

पाचक चूर्ण, हाजमा (स २५२)।

जोअंगण [दे] देखो जोइगण (अवि)।

जोअग वि [द्योतक्] १ प्रकाशनेवाला २ न

व्याकरण-प्रसिद्ध निपात वगैरह पद (विसे

१००३)।

जोअड पु [दे] खद्योत, कीट-विशेष, जुगट्ट

(षड्)।

जोअण न [दे] लोचन, नेत्र, चक्षु, आँख

(दे ३, ५०)।

जोअण न [योजन] १ परिमाण-विशेष, चार

कोश (भग, इक्)। २ सबन्ध, सयोग, जोडना

(पएह १, १)।

जोअण न [यौवन] युवावस्था, तरुणता,

जवानी (उप १४२ टी, गा १६७)।

जोअणा स्त्री [योजना] जोडना, सयोग

करना (उप पृ २२१)।

जोआ स्त्री [द्यो] १ स्वर्ग। २ आकाश

(षड्)।

जोआवइत्तु वि [योजयित्] जोडनेवाला,

संयुक्त करनेवाला (ठा ४, ३)।

जोइ वि [योगिन्] १ युक्त, सयोगवाला।

२ चित्त-निरोध करनेवाला, समाधि लगाने-

वाला। ३ पु. मुनि, यति, साधु (सुपा २१६,

२१७)। ४ रामचन्द्र का स्वनाम-ख्यात एक

सुमट (पउम ६७, १०)।

जोइ पु [ज्योतिस्] १ प्रकाश, तेज (भा,

ठा ४, ३)। २ अग्नि, वह्नि, 'सपि ज्ज

जहा पडिय जोइमपक्के' (सूय १, १३)। ३

प्रदीप आदि प्रकाशक वस्तु, 'जहा हि अशेस

जाइणावि' (सूय १, १२)। ४ अग्नि का

काम करनेवाला कल्पवृक्ष (सम १७)। ५

ग्रह, नक्षत्र आदि प्रकाशक पदार्थ (चद १)।

६ ज्ञान। ७ ज्ञान-युक्त। ८ प्रसिद्धि-युक्त।

९ सत्कर्म-कारक (ठा ४, ३)। १० स्वर्ग।

११ ग्रह वगैरह का विमान (राज)। १२

ज्योतिष-शास्त्र (निर ३, ३)। °अग पु

[°अङ्ग] अग्नि का काम करनेवाला कल्प

वृक्ष-विशेष (ठा १०)। °रस न [°रस]

रत्न की एक जाति (राया १, १)। देखो

जोइस = ज्योतिस्।

जोइअ पु [दे] कीट-विशेष, खद्योत, मुसुट्ट

पटवीजना (दे ३, ५०)।

जोइअ वि [हट्ट] देखा हुआ, विलोकित (सु

३, १७३, महा भवि)।

जोइअ वि [योजित] जोडा हुआ (१

२६४)।

जोइअ देखो जोगिय (राज)।

जोइगण पु [दे] कीट-विशेष, इन्द्र-गोप (

३, ५०)।

जोइक्क पुन [ज्योतिष्क] प्रदीप आदि प्रक

शक पदार्थ, किं सूरस्स वसणाहिग्गे जाइक्क

तर गवेसीयदि' (रभा)।

जोइक्ख पुं [दे] ज्योतिष्क १ प्रदीप, दीप

(दे ३, ४६, पव ४, वव ७)। २ प्रदं

आदि का प्रकाश (श्रोघ ६५३)।

जोइणी स्त्री [योगिनी] १ योगिनी, सन

सिनी। २ एक प्रकार की देवी, ये चीघ

(सति ११)।

जोइर वि [दे] स्वलित (दे ३, ४६)।

जोइस न [दे] नक्षत्र (दे ३, ४६)।

जोइस देखो जोइ = ज्योतिष् (चद १, न

विसे १८७०, जो १, ठा ६)। °राज

[°राज] १ सूर्य। २ चन्द्र (सुज्ज २०, १)

°ल्य पु [°ल्य] सूर्य आदि देव (

३६)।

पर्वत की एक वापी (ती २४) । ६ नवमी तिथि (ज ७) । १० जैन मुनियों की एक शाखा (कप्प) ।

जयण न [यजन] १ याग, पूजा । २ भ्रम्य-दान (परह २, १) ।

जयण न [यतन] १ यत्न, प्रयत्न, चेष्टा, उद्यम, 'जयणघडण-जोग-चरित' (अनु) । २ यतना, प्राणी की रक्षा (परह २, १) ।

जयण वि [जवन] वेगवाला, वेग-युक्त (कप्प) ।

जयण न [जयन] १ जीत, विजय (सुदा २६८, कप्प) । २ वि जीतनेवाला (कप्प) ।

जयण न [दे] घोड़े का बक्तर, हय-संनाह (दे ३, ४०) ।

जयणा ली [यतना] १ प्रयत्न, चेष्टा, कोशिश (निचू १) । २ प्राणी की रक्षा, हिंसा का परित्याग (दस ४) । ३ उपयोग, किसी जीव को दुःख न हो इस तरह प्रवृत्ति करने का ब्याल (निचू १, से ६७, औप) ।

जयहह पु [जयद्रथ] सिन्धु देश का स्वनाम-प्रसिद्ध एक राजा, जो दुर्योधन का बहनोई था (साया १, १६) ।

जया अ [यदा] जिस समय, जिस वक्त (कप्प, काल) ।

जया ली [जया] १ विद्या-विशेष (पञ्चम ७, १४१) । २ चतुर्थ चक्रवर्ती राजा की अग्र-महिषी (सम १५२) । ३ भगवान् वासुपुत्र्य की स्वनाम ब्यात माता (सम १५१) । ४ तिथि-विशेष—तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि (सुज १०) । ५ भगवान् पार्श्वनाथ की शासनदेवी (ती ६) । ६ श्रोत्र-विशेष (राज) ।

जयार पु [जयार] १ 'ज' अक्षर । २ जका-रादि अक्षर शब्द, 'जय्य जयारमयार' समणी जपद गिहत्थपच्चक्ख (गच्छ ३, ४) ।

जयिण देखो जइण = जयिन् (परह १, ४) ।

जर अक [ज] जीर्ण होना, पुराना होना, बूढ़ा होना । जरइ (हे ४, २३४) । कर्म जीरइ, जरिजइ (हे ४, २५०) । बहू जरत (अचु ७६) ।

जर पु [ज्वर] रोग-विशेष, बुखार (कुमा) ।

जर पु [जर] १ रावण का एक सुभट (पञ्चम ५६, ३) । २ वि जीर्ण, पुराना (दे ३, ५६) ।

जर वि [जरत्] जीर्ण, पुराना, बूढ़, बूढ़ा (कुमा, सुर २, ६६, १०४) । ली. °ई (कुमा, गा ४७२ अ) । °गव पु [°गव] बूढ़ा बैल (बूह १, अनु ४) । °गवो ली [°गवो] बूढ़ी गाय (गा ४६२) °गु पु [°गु] १ बूढ़ा बैल । २ ली बूढ़ी गाय, 'जिएणा य जरगवो पडिया' (पञ्चम ३३, १६) ।

जर° देखो जरा (कुमा, अत १६, वव ७) ।

जरइ वि [दे] बूढ़, बूढ़ा (दे ३, ४०) ।

जरग वि [जरक] जीर्ण, पुराना (अनु ५) ।

जरठ वि [जरठ] १ कठिन, पुरुष । २ जीर्ण, पुराना (साया १, १—पत्र ५) । देखो जरठ ।

जरइ वि [दे] बूढ़, बूढ़ा (दे ३, ४०) ।

जरइ देखो जरठ (पि १६८, से १०, ३८) । ३ प्रौढ, मजबूत (से १, ४३) ।

जरण न [जरण] जीर्णता, आहार का हजम होना, हाजमा (धर्मस ११३५) ।

जरय पुं [जरक] रदनप्रभा नामक नरक पृथिवी का एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६५) । °मज्झ पु [°मध्य] नरकावास-विशेष (ठा ६) । °वत्त पु [°वर्त] नरकावास-विशेष (ठा ६) । °वसिट्ट पु [°वशिष्ट] नरकावास-विशेष (ठा ६) ।

जरलद्धिअ } वि [दे] ग्रामीण, ग्राम्य (दे जरलविअ } ३, ४४) ।

जरा ली [जरा] बूढ़ापा, बूढ़त्व (आचा, कस, प्रासू १३४) । °कुमार पु [°कुमार] श्रीकृष्ण का एक भाई (अत) । °सध पु [°सन्ध] राजगृह नगर का एक राजा, नववाँ प्रतिवासुदेव, जिसको श्री कृष्ण वासुदेव ने मारा था (सम १५३) । °सिध पु [°सिन्ध] वही पूर्वोक्त अर्थ (परह १, ४—पत्र ७२) । °सिधु पुं [°सिन्धु] वही पूर्वोक्त अर्थ (साया १, १६ पत्र २०६, पञ्चम ५, १५६) ।

जरा ली [जरा] वसुदेव की एक पत्नी (कुप्र ६६) ।

जराहिरण (अप) देखो जल हरण (पिग) ।

जरि वि [जरिन्] बुखारवाला, ज्वर से पीड़ित (सुपा २४३) ।

जरि वि [जरिन्] जरा-युक्त, बूढ़, बूढ़ा (दे ३, ५७, उर ३, १) ।

जरिअ वि [ज्वरित] ज्वर-युक्त, बुखारवाला (गा २६६, सुपा २८६) ।

जल अक [जल] १ जलना, दग्ध होना । २ चमकना । जलइ (महा) । बहू जलंत (उवा, गा २६४) । हेहू. जलित (महा) । प्रयो, बहू जलित (महानि ७) ।

जल देखो जड (आ १२, आव ४) ।

जल न [जाड्य] जडता, मन्दता, 'जलधोय-जलनेवा' (सार्ध ७३, से १, २४) ।

जल पु [जल] देदीप्यमान, चमकीला (सूत्र १, ५, १) ।

जल न [जल] वीर्य (वजा १०२) । °रुत पुन [°कान्त] एक देवविमान (देवेन्द्र १४४) । °कारि पुली [°कारिन्] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (उत्त ३६, १४६) । °य वि [°ज] पानी में उत्पन्न (श्रु ६८) । °वारिअ पु [°वारिक] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (सुख ३६, १४६) ।

जल न [जल] १ पानी, उदक (सूत्र १, ५, २, जी २) । २ पुं जलकान्त-नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । °कत पु [°कान्त] १ मणि-विशेष, रत्न की एक जाति (पण्ण १, कुम्मा १५) । २ इन्द्र-विशेष, उदधिकुमार-नामक देव-जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३) । ३ जलकान्त इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । °करप्फाल पुं [°करास्फाल] हाथ से आहत पानी (पात्र) । °करि पुली [°करिन्] पानी का हाथी, जल-जन्तु विशेष (महा) । °कलब पु [°कदम्ब] कदम्ब वृक्ष की एक जाति (गड) । °कीडा, °कीला ली [°कीडा] पानी में की जाती कीडा, जल-केल (साया १, २) । °केलि ली [°केलि] जल-कीडा (कुमा) । °चर देखो °यर (कप्प, हे १, १७७) । °चार पु [°चार] पानी में चलना (आचा २, ५, १) । °चारण पुं [°चारण] जिसके प्रभाव से पानी में भी भूमि की तरह चला जा सके ऐसी अलौकिक शक्ति रखने-वाला मुनि (गच्छ २) । °चारि पु [°चारिन्] पानी में रहनेवाला जंतु (जी २०) ।

सुपा २०२) । वक्र. जवत (नाट) । कवक्र.
जविज्जत (सुर १३, १८६) ।

व पु [जप] जाप, पुन पुन मन्त्रोच्चारण,
बार-बार मन ही मन देवता का नाम-स्मरण
(परह २, २, सुपा १२०) ।

त्रव पु [यव] १ अन्न-विशेष, जव या जौ (राया
१, १, परह १, ४) । २ परिमाण-विशेष, आठ
गूका की नाप (ठा ८) । ३ गाली स्त्री [नाली]
वह नाली जिसमें जौ बोए जाते हो (आचू
१) । ४ मज्ज न [मध्य] १ तप-विशेष
(पत्रम २२, २४) । २ आठ गूका का एक
नाप (पव २५) । ३ मज्जा स्त्री [मध्या]
व्रत विशेष, प्रतिमा-विशेष (ठा ४, १) ४ राय
पु [राज] नृप-विशेष (वृह १) । ५ वसा
स्त्री [वशा] वनस्पति-विशेष (परण १) ।

जव पु [जव] वेग, दौड, शीघ्र गति
(कुमा) ।

जव पुन [यव] एक देवविमान (देवेन्द्र
१४०) । २ नालय पु [नालक] कन्या का
कंचुक (एदि ८८ टी) । ३ न [न]
यव निष्पन्न परमाप्त, भोज्य विशेष, जव की
खीर, जाउर (पव २५६) ।

जवजव पु [यवयव] अन्न-विशेष, एक तरह
का यव धान्य (ठा ३, १) ।

जवण न [दे] हल की शिखा, हल की चोटी
(दे ३, ४१) ।

जवण न [जपन] जाप, पुन पुन मन्त्र का
उच्चारण, 'अहिणा बट्टस्स जए को कालो
मत्त-जवणम्मि' (पत्रम ८६, ६०, स ६) ।

जवण वि [जवन] १ वेग से जानेवाला (उप
७६८ टी) । २ पु वेग, शीघ्र गति (आवम) ।

जवण पु [यवन] १ म्लेच्छ देश-विशेष
(पत्रम ६८, ६४) । २ उस देश में रहनेवाली
मनुष्य जाति (परह १, १) । ३ यवन देश
का राजा (कुमा) ।

जवण न [यापन] निर्वाह, गुजारा, (उत्त
८) ।

जवणा स्त्री [यापना] ऊपर देखो (पव २) ।

जवणागिया स्त्री [यवनागिका] लिपि-विशेष
(राज) ।

जवणालिया स्त्री [यवनालिका] कन्या का
कंचुक (आवम) ।

जवणिआ स्त्री [यवनिका] परदा (दे ४, १,
सरा, कप्पू) ।

जवणिज्ज देखो जव = यापय ।

जवणी स्त्री [यवनी] परदा, आच्छादक पट
(दे २, २५) । २ सचारिका, दूती (अभि
५७) ।

जवणी स्त्री [यावनी] १ यवन की स्त्री । २
यवन की लिपि (सम ३५, विसे ४६४ टी) ।

जवणीअ देखो जव = यापय ।

जवपचमाण पु [दे] जात्यश्व का वायु-विशेष,
प्राण-वायु (गडड) ।

जवय } पु [दे] जव का अक्षर (दे ३,
जवरय } ४२) ।

जवली स्त्री [दे] जव, वेग, 'गच्छति गत्य-
नेहेण पवरतुरयाहिब्ढा जवलीए' (सुपा
२७६) ।

जववारय [दे] देखो जवरय (पचा ८) ।

जवस न [यवस] १ ट्टण, घास, 'गिट्ठिव्व
जवसम्मि' (उप ७२८ टी, उप पृ ८४) । २
गेहूँ वगैरह धान्य (आचा २, ३, २) ।

जवा स्त्री [जपा] १ वल्ली-विशेष, जवा-पुष्प
का वृक्ष । २ गुडहल का फूल, अडहल का
पुष्प (कुमा) ।

जवास पु [यवास] वृक्ष विशेष, रक्त पुष्प-
वाला वृक्ष-विशेष, 'पाउसि जवासो' (आ २३,
परण १), 'जवासाकुसुमे इ वा' (परण
१७) ।

जवि } वि [जविन्] १ वेगवाला, वेग-युक्त
जविण } सुपा ११२) । २ पु. अरव, घोडा
(राज) ।

जविअ वि [जपित] १ जिसका जाप किया
गया हो वह (मन्त्र आदि) (सिरि ३६६) ।
२ न. अध्ययन, प्रकरण आदि अथाश (सुख
२, १३) ।

जविय वि [यापित] १ गमित, गुजरा हुआ ।
२ नाशित (कुमा) ।

जस पु [यशस्] १ कीर्ति, इज्जत, सु-
ख्याति (श्रौप, कुमा) । २ समय, त्याग,
विरति (वव १, दस ५, २) । ३ विनय
(उत्त ३) । ४ भगवान् अनन्तनाथ का प्रथम
शिष्य (सम १५२) । ५ भगवान् पार्श्वनाथ

का आठवा प्रधान शिष्य (कप्पू) । ६ 'किञ्चि
स्त्री [कीर्त्ति] सुख्याति, सुप्रसिद्धि (सुप्र १,
६, आचू १) । ७ भद्र पु [भद्र] स्वनाम-
ख्यात एक जैन आचार्य (कप्प, सार्ध १३) ।

८ म मत वि [वत्] १ यशस्वी, इज्जतदार,
कीर्त्तिवाला (परह १, ४) । २ पुं स्वनाम-
प्रसिद्ध एक कुलकर पुष्य (सम १५०) ।

३ वई स्त्री [वती] १ द्वितीय चक्रवर्ती सगर-
राज की माता (सम १५२) - २ तृतीया,
अष्टमी और त्रयोदशी की रात्रि (चद १
० वम्म पु [वर्मन्] स्वनाम-ख्यात नृप-दि
(गडड) । ४ वाय पुं [वाद] साधुवाद, य
गान, प्रशंसा (उप ६८६ टी) । ५ विजय
[विजय] विक्रम की अठारहवीं शताब्दी

एक जैन सुप्रसिद्ध ग्रन्थकार, न्यायाचार्य श्री
यशोविजय उपाध्याय (राज) । ६ हर पु [ह
१ भारतवर्ष का भूत कालिक अठारहवीं
जिन-देव (पव ८) । २ भारतवर्ष के एक
भावी जिन-देव (पव ४६) । ३ एक राज-
कुमार (धम्म) । ४ पक्ष का पाँचवाँ दिन (ज
७) । ५ वि यश को धारण करनेवाला,
यशस्वी (जोव ३) । देखो जसो ।

जससि पु [यशस्विन्] भगवान् महावीर
पिता का एक नाम (आचा २, १५,
कप्प) ।

जसद् पुं [जसद्] घातु-विशेष, जस्ता (राज, १)
जसदेव पु [यशोदेव] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य
(पव २७६) ।

जसभद् पुं [यशोभद्र] १ पक्ष का ८
दिवस (सुज्ज १०, १४) । २ एक राज
जो वागड देश के रत्नपुर नगर का राजा
श्रीर जिसने जैनी दीक्षा ली थी, जो श्री
हेमचन्द्र के गुरु थे (कुप्र ७, १८) । ३
उड्डुवाटिक गण का एक कुल (कप्प) ।

जसवई स्त्री [यशोमती] भगवान् महावीर
की दौहित्री का नाम (आचा २ १५, ३) ।

जसस्सि वि [यशस्विन्] यशस्वी, कीर्त्तिमा
(सुप्र १, ६, ३, श्रु १४३) ।

जसहर पुन [यशोधर] एक देव-विमान
(देवेन्द्र १४१) ।

जसा स्त्री [यशा] कपिलमुनि की माता (उत्त
८) ।

भूसमाण (आवा) । सङ्ग भूसिन्ता, भूसिन्ताणं, भूसिन्ता (श्रौप. पि ५८३, अत २७) ।	भोडलिआ वी [दे] रास के समान एक प्रकार की क्रीडा (दे ३, ६०) ।	भूसमाण, भूसेमाण (सुपा २६, भावा) । सङ्ग 'सलेहणाए सम्मं भूसिन्ता निन्दे' तु' (सुर ६, २४६) ।
भूसणा वी [जोपणा] सेवा, आराधना (उवा, अत, श्रौप, पाया १, १) ।	भोड सक [शाट्य] पेड आदि से पत्र वगैरह को गिराना । भोडइ (पि ३२६) ।	भूस सक [गवेपय] खोजना, अरुत करना । भोसेहि (इह ३) ।
भूसरिअ वि [दे] १ अत्यर्थ, अरुन्त । २ स्वच्छ, निर्मल (दे ३, ६२) ।	भोड न [दे] १ पेड आदि से पत्र आदि का गिराना । २ जीर्ण वृक्ष (साया १, ११—पत्र १७१) ।	भूस सक [भोपय] डालना, प्रलेप करना । कृ भूसियज्य (वव १) ।
भूसिय वि [जुष्ट] १ लेखित, आराधित (साया १, १, श्रौप) । २ क्षपित, क्षिप्त, परित्यक्त (उवा, ठा २, २) ।	भोडण न [शाटन] पातन, गिराना (परह १, १—पत्र २३) ।	भूस पु [भोप] राशि विशेष, जिस अन्न से समान भागाकार हो वह राशि (वव १) ।
भोडुअ पुं [दे] कन्दुक, गैदु (दे ३, ५६) । भोय देवो भ्रा ।	भोडण्य पु [दे] १ चना, अन्न-विशेष । २ सूखे चने का शाक (दे ३, ५६) ।	भूस पु [दे] भाडना, हूर करना (ठ ५, २) ।
भोर पुं [दे] पुराना घण्टा (दे ३, ५६) ।	भोडिअ पु [दे] व्याघ्र, शिकारी, बहेलिया (दे ३, ६०) ।	भूसण न [दे] गवेपण, मार्गण, 'भामेरां ति वा मग्ण ति वा भोसण ति वा एट्टं' (वव २) ।
भोटिंग पु [दे] देव-विशेष (कुप्र ४७२) ।	भोलिआ } वी [दे] भोलिका } कोली, भोलिआ } बैली, कोथली (दे ३, ५६, सुप्र २, ४) ।	भूसणा देवो भूसणा (नम ११६, नम) ।
भोट्टी वी [दे] अर्धमहिषी, भैस की एक जाति (दे ३, ५६) ।	भोस देवो भूस । भोसेह (आवा) । वक	भूसणा वी [जोपणा] अत समथ के आराधना, सलेखना (आवक ३७८) ।
		भोसिअ देवो भूसिय (आवा, हे ५, २१८)

॥ इय सिरिपाइअसहमहणवन्मि भयाराइसहसकलणो
सत्तरहमो तरगो समत्तो ॥

ट

ट पु [ट] मूर्द्धं स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष (भामा, प्राप) ।	भित्ति, भोत । ५ तट, किनारा (दे ४, ४) ।	टकिआ वी [टकिआ] क्त्वर माने वा ष्ट
टउया वी [दे] आह्वान-शब्द, पुकारने की आवाज, गुजराती में 'टौको' (कुप्र ३०६) ।	६ खनिज, कुदाल (दे ४, ४, से ५, ३५) ।	टाकी (सम्मत् २२७) ।
टंक पु [टङ्क] चित्र-विशेष, सिका पर का चित्र (पचा ३, ३५) ।	७ वि छिन्न, छेदा हुआ, काटा हुआ (दे ४, ४) ।	टवरय वि [दे] भारपाता, गुड, नग (४, २) ।
टक पु [टङ्क] १ तलवार आदि का ध्रम भाग (परह १, १—पत्र १८) । २ एक प्रकार का सिका (आ १२, सुपा ५१३) ।	टंकण पु [टङ्कन] म्लेच्छ की एक जाति, (विते १४४४) ।	टक पु [टङ्क] देश-विशेष (हे १, १६१) ।
३ एक दिशा में छिन्न पर्वत (साया १, १—पत्र ६३) । ४ पत्थर काटने का अन्न, टांकी, छेनी (से ५, ३५, उप पु ३१५) । ५ परिमाण विशेष, चार मासे की तौल (पिंग) ।	टंकरथुल पु [दे] कन्द-विशेष, एक जाति की तरकारी (आ २०) ।	टक वि [टङ्क] १ छ-देशीय । २ पुं की एक जाति (कुप्र १२) ।
६ पक्षि-विशेष (जीव १) ।	टंका वी [दे] १ जघा, जाँघ (पाम) । २ स्वनाम-ख्यात एक तीर्थ (वी ४३) ।	टकर पु [टे] टोकर, ध्रम में ध्रम का ष्ट (सुर १२, ६७, वव १) ।
टक पुं [दे] १ तलवार, खड्ग । २ खात, खुवा हुआ जलाशय । ३ जङ्घा, जाँघ । ४	टंकारा पु [टंकार] धनुष का शब्द (मवि) ।	टकरा वी [दे] टकोर, मुड-सिर न ष्ट का प्राघात (वव १ टी) ।
	टंकार पु [दे] धौजस्, तेज (गवड) ।	टकारा वी [दे] अरणि-वृष का ष्ट (४, २) ।
	टकिअ वि [दे] प्रद्य, फिना हुआ (दे ८, १) ।	टगर पु [तगर] १ वृन्-विशेष, क्व वृक्ष । २ सुगन्धित काष्ठ गिटा (२०५, कुमा) ।
	टकिअ वि [टकिअ] टांकी में काटा हुआ (दे ४, ५०) ।	

७ मद्य-विशेष (विपा १, २) । °आजीव पु [°आजीव] जाति की समानता बतला कर शिक्षा प्राप्त करनेवाला साधु (ठा ५, १) । °धेर पु [स्थविर] साठ वर्ष की उम्र का मुनि (ठा ३, २) । °नाम न [°नामन] कर्म-विशेष (सम ६७) । °पसण्णा स्त्री [°पसन्ना] जाति के पुण्यो से वासित मदिरा (जीव ३) । °फल न [°फल] १ वृक्ष-विशेष । २ फल-विशेष, जायफल, एक गर्भ मसाला (सुर १३, ३३, सण) । °मत्त वि [°मत्त] जन्व जाति का (भावा २, ४, २) । °मय पु [°मय] जाति का अभिमान (ठा १०) । °वत्तिया स्त्री [°पत्तिका] १ सुगन्धित फलवाला वृक्ष-विशेष । २ फल-विशेष, एक गर्भ मसाला (सण) । °सर पु [°स्मर] १ पूर्व जन्म की स्मृति । २ वि पूर्व जन्म का स्मरण करनेवाला, पूर्व-जन्म का ज्ञान-वाला, 'आइसराइ मन्ने इमाइ नयण्णइ सयल्लोयस्स' (सुर ४, २०८) । °सरण न [°स्मरण] पूर्व जन्म की स्मृति (उत्त १६) । °स्सर देखो 'सर (कम्प, विसे १६७१, उप २२० टी) ।

जाइ स्त्री [जाति] १ न्याय-शास्त्र-प्रसिद्ध दूषणभास—असत्य दूषण (धर्मस २६०, स ७११) । २ माता का वरा (पिड ४३८) । जाइ देखो जाया (पट्ट) ।

जाइ स्त्री [दे] १ मदिरा, सुरा, दारू (दे ३, ४५) । २ मदिरा-विशेष (विपा १, २) ।

जाइ वि [याजिन्] यज्ञ कर्ता (वसनि १, १४६) ।

जाइ वि [यायिन्] जानेवाला (ठा ४, ३) । जाइ वि [याचित] प्राथित, माँग हुआ (विसे २५०४, गा १६५) ।

जाइअ देखो जाय = जात (वज्जा १४४) ।

जाइच्छि } वि [याइच्छिक] १ इच्छा-जाइच्छिय } नुसार, यथेच्छ (धर्मस १२) । २ इच्छानुसारी (धर्मस ६०२) ।

जाइच्छिय वि [याइच्छिक] स्वेच्छा-निर्मित (विसे २५) ।

जाइज्जत देखो जाय = यातय ।

जाइज्जत } देखो जाय = याच् ।
जाइज्जमाण }

जाइणी स्त्री [याकिनी] एक जैन साध्वी, जिसको सुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार श्री हरिभद्र-सूरि अपनी धर्म-माता समझते थे (उप १०३६) ।

जाइयव्वय न [यातव्य] गमन, गति (सुख २, १७) ।

जाईअ वि [जातीय] जाति-सम्बन्धी (भावाक ४०) ।

जाउ न [जायु] क्षीरपेमा, यवाग्र, माड की काजी, लपसी, खाद्य-विशेष (पिड ६२५) ।

जाउ अ [जातु] कदाचित्त, कभी (उवकु ११) ।

जाउ अ [जातु] किसी तरह (उप ५४७) । °कण्ण पु [कण] पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का गोत्र (इक) ।

जाउ स्त्री [यात्] १ देवर-पत्नी, देवरानी । २ वि जानेवाला (सनि ४) ।

जावया स्त्री [यात्का] देवर-पत्नी, पति के छोटे भाई की स्त्री, देवरानी (गाया १, १६) ।

जाउर पु [दे] कपित्थवृक्ष, कैथ का फल (दे ३, ४५) ।

जाउल पु [जातुल] वल्ली-विशेष (परण १—पत्र ३२) ।

जाउहाण पु [यातुधान] राक्षस (उप १०३१ टी, पात्र) ।

जाग पु [याग] १ यज्ञ, अर्घ्य, होम, हुवन (पत्तम १४, ४७, स १७१) । २ देव-पूजा (गाया १, १) ।

जागर अक [जागु] जागना, निद्रा-त्याग करना । जागरइ (वट्ट) । वक्क जागरमाण (विसे २७१६) । हेइ जागरित्तए, जाग-रेत्ताए (कम्प, कस) ।

जागर वि [जागर] १ जागनेवाला, जागता (भावा, कम्प आ २५) । २ पु जागरण, निद्रा-त्याग (मुद्रा १८७, भग १२, २, सुर १३, ६७) ।

जागरइत्तु वि [जागरित्तु] जागनेवाला (आ २३) ।

जागरिअ वि [जागृत] जाग हुआ, निद्रा-रहित, प्रबुद्ध (गाया १, १६, आ २५) ।

जागरिअ वि [जागरिक] निद्रा-रहित (भग १२, २) ।

जागरिया स्त्री [जागरिया, जागरिया] जागरण, निद्रा-त्याग (गाया १, १, प्रोप) ।

जागरुअ वि [जागरुक] जागता, जाग हुआ, जागने के स्वभाववाला (धर्मस १३०) ।

जाजावर वि [यायावर] गमनशील विनश्वर (सम्मत १७४) ।

जाडो स्त्री [दे] शुल्फ, लता-प्रदान (दे ३, ४४) ।

जाण सक [जा] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना । जाणइ (हे ४, ७) । वक्क जाणत, जाणमाण (कम्प, विपा १, १) । सक-जाणिकण, जाणित्ता, जाणित्तु (पि ५८६, महा, भग) । हेइ जाणिइ (पि ५७६) । क जाणियव्व (भग, धत १२) ।

जाण पुन [यान] १ रथादि वाहन, सवारो (श्रौप, परइ २, ५, ठा ४, ३) । २ यान-पात्र, नौका, जहाज, 'नाए ससारसमुत्तारणे वधुर जाण' (पुक्क ३७) । ३ गमन, गति (राज) । °पत्त, °वत्त न [°पात्र] जहाज, नौका (नमि ५, सुर १३, ३१) । °खाला स्त्री [°शाला] १ तबेला, अस्तबल । २ वाहन बनाने का कारखाना (श्रौप, भावा २, २, २) ।

जाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, समझ (भग, कुमा) ।

जाण वि [जानत्] जानता हुआ, 'जाण काएण खात्तु' (सुम १, ५, १), 'आसु-परणेण जाणया' (भावा) ।

जाणई स्त्री [जानकी] सीता, राम-पत्नी (पत्तम १०६, १८, से ६, ६) ।

जाणग वि [ज्ञायक] जानकार, ज्ञानी, जाननेवाला (सुम १, १, १, महा, सुर १०, ६५) ।

जाणगी देखो जाणई (पत्तम ११७, १८) ।

जाणण न [दे] वरात, गुजराती में 'जान', 'जो तदवस्थाए समुच्चिओत्ति जाणणणइओ' (उप ५६७ टी) ।

जाणण न [ज्ञान] जानना, जानकारी, समझ, बोध (हे ४, ७, उप पृ २३, सुपा ४१६, सुर १०, ७१, रयण १४, महा) ।

जाणणया स्त्री, जाणणा } स्वर देखो (उप ५१६, विसे २१४८, अणु, आचू ५) । १ जाणय देखो जाणग (भग, महा) ।

ठ

ठ पु [ठ] मूधं-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (भ्रामा, प्राप) ।
 ठइअ वि [दे] १ उत्क्षिप्त, ऊपर फेंका हुआ । २ पु. अक्काश (दे ४, ५) ।
 ठइअ वि [स्थगित] १ आच्छादित, ढका हुआ । २ बन्द किया हुआ, रका हुआ (स १७३) ।
 ठइअ देखो ठविअ (पिंग) ।
 ठंङिल देखो थंङिल (ज्व) ।
 ठभ देखो थभ = स्तम्भ । कर्म ठभिञ्जइ (हे २, ६) ।
 ठभ देखो थभ = स्तम्भ (हे २, ६, षड्) ।
 ठकुर } पु [ठक्कुर] १ ठाकुर, क्षत्रिय,
 ठक्कुर } राजपूत (स ५४८, सुपा ४१२, सट्टि ६८) । २ ग्राम चगैरह का स्वामी, नायक, मुखिया (भावम) ।
 ठकार पु [ठकार] 'ठ' अक्षर, 'तमि चलते करिमयसिताइ महोइ तुरगबुरसेणो । लिहिया रिऊण विजए मत्तो ठकारपति व्व' (धर्मवि २०) ।
 ठग } सक [स्थग] बन्द करना, ढकना ।
 ठय } ठोइ, ठएइ (सट्टि २३ टी, सुख २, १७) ।
 ठग पु [ठक] ठग, घूर्त, बच्चक (दे २, ५८, क्रमा) ।
 ठगिय वि [दे] वञ्चित, ठगा हुआ, विप्र-
 तारित (सुपा १२४) ।
 ठगिय देखो ठइय = स्थगित (उप पृ ३८८) ।
 ठट्टार पु [दे] ताम्र, पितलधादि धातु के वर्तन बनाकर जीविका चलानेवाला, ठटेरा (धर्म २) ।
 ठड्ड वि [स्तड्य] हक्काबक्का, कुण्डित, जड (हे २, ३६, वज्जा ६२) ।
 ठप्प वि [स्थाप्य] स्थापनीय, स्थापन करने योग्य (शोध ६) ।
 ठय सक [स्थग्] बन्द करना, रोकना ।
 ठएति (स १५६) ।
 ठयण [स्थान] १ हकाव, अटकाव । २ वि रोकनेवाला । स्त्री ०णी (उप ६६६) ।
 ठयण न [स्थगन] बन्द करना, 'अच्छिठठयणं च' (पंचा २, २५) ।

ठरिअ वि [दे] १ गौरवित । २ ऊर्ध्व-
 स्थित (दे ४, ६) ।
 ठलिय वि [दे] खाली, शून्य, रिक्त किया गया (सुपा २३७) ।
 ठल वि [दे] निर्धन, धन-रहित, दरिद्र (दे ४, ५) ।
 ठव सक [स्थापय] स्थापन करना । ठवइ, ठवेइ (पिंग, कण, महा) । ठवे (भग) । वड्ड, ठवत (रण ६३) । सक्क ठविउ, ठविऊण, ठविता, ठविउ, ठवेत्ता (पि ५७६, ५८६, ५८२, प्रासू २७, पि ५८२) ।
 ठवण न [स्थापन] स्थापन, सस्थापन (सुर २, १७७) ।
 ठवणा स्त्री [स्थापना] १ प्रतिष्ठति, चित्र, मूर्ति, आकार (ठा २, ४, १०, अणु) । २ स्थापन, न्यास (ठा ४, ३) । ३ साकेतिक वस्तु, पुण्य वस्तु के अभाव या अनुपस्थिति में जिस किसी चीज में उसका संकेत किया जाय वह वस्तु (विसे २६२७) । ४ जैन साधुओं की भिक्षा का एक दोष, साधु को भिक्षा में देने के लिए रखी हुई वस्तु (ठा ३, ४—पत्र १५६) । ५ अनुज्ञा, समति (एदि) । ६ पयुपणा, आठ दिनों का जैन पर्व-विशेष (निचू १०) । कुल पुन [कुल] भिक्षा के लिए प्रतिपिद्ध कुल (निचू ४) । ०णय पु [नय] स्थापन को ही प्रदान माननेवाला मत (राज) । ०पुरिस पु [पुरूप] श्रुत्व की मूर्ति या चित्र (ठा ३, १, सूत्र १, ४, १) । ०यरिय पु [चार्य] जिस वस्तु में आचार्य का संकेत किया जाय वह वस्तु (धर्म २) । ०सच्च न [सत्य] स्थापना-विषयक सत्य, जिन भगवान् की मूर्ति को जिन कहना यह स्थापना-सत्य है (ठा ६०, पण ११) ।
 ठवगा स्त्री [स्थापना] वामना (एदि १७६) ।
 ठवणी स्त्री [स्थापनी] न्यास, न्याय रूप में रना हुआ द्रव्य (आ १८) । ०मोम पु [मोप] न्याय की चोरी, न्यास का अग्रनाप, 'दोहेनु मित्तदोहो, ठवणीमोमो अनेसमेनेनु' (आ १४) ।

ठविअ वि [स्थापित] रखा हुआ, संन्यासित (पड्, पि ५६४, ठा ५, २) ।
 ठविआ स्त्री [दे] प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिरूप (दे ४, ५) ।
 ठविर देखो थविर (पि १६६) ।
 ठा अक [स्था] बैठना, स्थिर होना, रना, गति का रकाव करना । ठाइ, ठाअइ (हे ५, १६, पड्) । वड्ड ठायमाण (उप १३० टी) । सक्क ठाऊण, ठाऊण (पि ६०६ पचा १८) । हेक्क ठाऊण, ठाउ (रन, श्राव ५) । क्क, ठाणिञ्ज, लयव्व, ठाण यव्व (शाया १, १४, सुपा ३०२, मु ६, ३३) ।
 ठाइ वि [स्थायिन्] रहनेवाला, स्थिर गवाला (श्रीप. कण) ।
 ठाएयव्व देखो ठा ।
 ठाएयव्व देखो ठाव ।
 ठाण पु [दे] मान, गर्व, अविमान (२ ५, ५) ।
 ठाण पुन [स्थान] १ स्थिति, अस्थान, स्त्री की निवृत्ति (सूत्र १, ५, १, वृह १) । २ स्थान प्राप्ति (सम्म १) । ३ निवास, रना (पुप १, ११, निचू १) । ४ कारण, निर्माण, पु (सूत्र १, १, २, ठा २, ४) । ५ पर्व आदि प्राप्त (राज) । ६ प्रकार के (पि १०, प्राचू ४) । ७ पद, जगद (ठा १०) । ८ गुण, पर्याय, धर्म (ठा ५, ३, आ ४) । ९ आश्रय, आचार, वसति, महान, पर (पि ४, ३) । १० पुत्रीय जैन अग्र-अय-अऊण मूत्र (ठा १) । ११ 'ठाणाय' मूत्र का अग्र-अय परिक्रम (ठा १, २, ३, ४) । १२ आश्रय (श्रीप) । १३ अट्ट वि [अट्ट] १ धर्म, ज्ञान में च्युत (शाया १, ६) । २ नाश्रि में च्युत (तट्टु) । ३ अय वि [निग] राना करनेवाला (श्रीप) । ४ अय न [निग] जैना स्थान (वृह ५) ।
 ठाण न [स्थान] १ कुकण (कार १, ६) । २ एन नाग (निदि ६३६) । ३ एन नागानार वनाया (संबोध ५८१) ।

जाल न [जाल] १ समूह, सघात (सुर ४, १३५, स ४४३) । २ माला का समूह, दाम-निकर (राय) । ३ कारीगरीवाले छिद्रों से युक्त गृहाश, गवाक्ष-विशेष, झरोखा (श्रीप, राया १, १) । ४ मछली वगैरह पकड़ने का जाल, पाश-विशेष (परह १, १) । ४ मछली वगैरह पकड़ने की जाल, पाश-विशेष (परह १, १, ४) । ५ पैर का आभूषण-विशेष, कडा (श्रीप) । °कडग पु [कटक] १ सच्छिद्र गवासों का समूह । २ सच्छिद्र गवाक्ष-समूह से अलंकृत प्रदेश (जीव ३) । °घरग न [गृहक] सच्छिद्र गवाक्षवाला मकान (राय, राया १, २) । °पजर न [पजर] गवाक्ष (जीव ३) । °हरग देखो °घरग (श्रीप) । जाल पु [जवाल] ज्वाला, अग्नि-शिक्षा, आग की लपट (सुर ३, १८८, जी ६) । जालतर न [जालान्तर] सच्छिद्र गवाक्ष का मध्यभाग (सम १३७) । जालधर पु [जालन्धर] १ पजाब का एक स्वनाम ध्यात शहर (अवि) । २ न गोत्र-विशेष (कप्प) । जालधरायण न [जालन्धरायण] गोत्र-विशेष (आचा २, १५) । जाला देखो जाल = जाल (परह १, १, ५, श्रीप, राया १, १) । जाला पु [जालक] द्वीन्द्रिय जीव की एक जाति, मकड़ी (उत्त ३६, १३०) । जालघडिआ बी [दे] चन्द्रशाला, अट्टालिका, अटारी (दे ३, ४६) । जालय देखो जाल = जाल (गडड) । जालयगी बी [दे] सवाद, समूहान, खवर-गुनराती मे 'जाळ्वण' (सिंरि ३८५) । जाला बी [ज्वाला] १ अग्नि की शिक्षा (आचा, सुर २, २४६) । २ नवम चक्रवर्ती की माता (सम १५२) । ३ भगवान् चन्द्रप्रभ की शासनदेवी (सति ६) । जाला अ [यदा] जिस समय, जिस काल मे, 'चाला जाअति गुणा, जाला ते सहिअपदि वेपति' (हे ३, ६५) । जालाउ पु [जालायुप्] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष, मकड़ी (राज) ।

जालाव सक [ज्वालय्] जलाना, दाह देना । वृत्त जालावत (महानि ७) । जालाविअ वि [ज्वालित] जलाया हुआ (सुपा १८६) । जालि पु [जालि] १ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु १) । २ श्रीकृष्ण का एक पुत्र, जिसने दीक्षा ले कर शत्रुक्षय पर्वत पर मुक्ति पाई थी (अत १४) । जालिय पु [जालिक] जाल-जीवि, वायुरिक, बहेलिया, चिड़ीमार (गडड) । जालिय वि [ज्वालित] जलाया हुआ, सुलगाया हुआ (उव, उप ५६७ टी) । जालिया बी [जालिका] १ कन्बुक (परह १, ३—पत्र ४४, गडड) । २ वृत्त (राज) । जालुगाल पु [जालोद्गाल] मछली पकड़ने का साधन-विशेष (अभि १८३) । जाव देखो जावइअ (आचा २, २, ३, ३) । जाव सक [यापय्] १ गमन करना, गुजारना । २ बरतना । ३ शरीर का प्रतिपालन करना । जावइ (आचा) । जावेइ (हे ४, ४०) जावए (सूअ १, १, ३) । जाव अ [यावत्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ परिमाण । २ मर्यादा । ३ अवधारण, निश्चय, 'जावदय परिमाणे मज्जायाएवचारणे चेइ' (वित्ते ३५१६, राया १, ७) । °जीव बी न [जीव] जीवन पर्यन्त (आचा) । बी. °वा (विसे ३५१८, श्रीप) । °जीविय वि [जीविक] यावज्जीव-सदन्वी (स ४४१) । देखो जाव । जाव पु [जाप] मन ही मन बार बार देवता का स्मरण, मन्त्र का उच्चारण (सुर ६, १७४, सुपा १७१) । जावइ पु [दे] वृक्ष-विशेष (परह १—पत्र ३४) । जावइअ वि [यावत्] जितना, 'जावइया वयणपहा' (सम्म १४४, अत ६४) । जावई बी [जानिपत्री] १ कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८, सुख ३६, ६८) । २ गुच्छवनस्पति की एक जाति (परह १—पत्र ३४) । जावईय पु [जातिपत्रीक] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८) ।

जाव देखो जाय (पउम ६८, ५०) । °ताव अ [तावत्] १ गणित-विशेष । २ गुणाकार (ठा १०) । जावत देखो जावइअ (भग १, १) । जावग देखो जावय = यापक (दसति १) । जावण न [यापन] १ विताना, गुजारना । २ दूर करना, हटाना (उप ३२० टी) । जावणा बी [यापना] ऊपर देखो (उप ७२८ टी) । जावणिज्ज वि [यापनीय] १ जो वीताया जाय, गुजारने योग्य । २ शक्ति-युक्त, 'जावणिज्जाए णिसीहिआए' (पडि) । °तत न [तन्त्र] ग्रन्थ-विशेष (घर्म २) । जावय वि [यापक] १ वीतानेवाला । २ पु. तर्क-शास्त्र-प्रसिद्ध काल-क्षेपक हेतु (ठा, ४, ३) । जावय वि [जापक] जीतनेवाला, 'जियाण जावयाए' (पडि) । जावय पु [यावक] अलक्तक, अलता, लाल का रंग (गडड, सुपा ६६) । जावसिय वि [यावसिक] १ धान्यसे गुजारा करनेवाला (वृह १) । २ घास वाहक (श्रीध २३८) । जाविय वि [यापित] वीताया हुआ (राया १, १७) । जास पु [जाप] पिशाच-विशेष (राज) । जासुमण | पु [जपासुमनस्] १ जपा जासुमिण | का वृक्ष, पुष्पप्रधान (परह १ जासुयण | राया १, १) । २ न जपा का फूल (राया १, १, कप्प) । जाहग पु [जाहक] जन्तु-विशेष, जिसके शरीर मे काँटे होते हैं, साही या साहिल (परह १, १, विसे १४५४) । जाहर्थ न [याथार्थ्य] सत्यपन, वास्तविकता (विसे १२७६) । जाहासख देखो जहा-सख, 'जाहासखमिणीय नियकज्ज साहुनाओ य' (उप १७६) । जाहे अ [यदा] जिस समय, जब, (हे ३, ६५, महा, गा ६८) । जि (अप) देखो एव=एव (हे ४, ४२०, कुमा, वजा १४) ।

म्लेच्छ-जाति, डोम (परह १, १, इक, पव ६) । ३ देखी डुव (पात्र) ।
 डोविल्या } पु [दे] १ म्लेच्छ देश विशेष । २
 डोविल्य } एक अनार्थ जाति (परह १, १, इक) । ३ डोम, चारडाल (स २८६) ।
 डोकरी स्त्री [दे] बूढी स्त्री (कुप्र ३५३) ।
 डोड पु [दे] ब्राह्मण, विप्र (सुख ३, १) ।
 डोडिणी स्त्री [दे] ब्राह्मणी (अनु० ६६ सूत्र) ।
 डोडिणी स्त्री [दे] ब्राह्मणी (अणु ४६) ।
 डोडू पु [दे] एक मनुष्य-जाति, ब्राह्मण, 'दिष्टो तस्वणजिमिभ्रो निगच्छतो वहि डोडू, तो तस्सुदर फालिअ' (उप १३६ ठी) ।
 डोर पु [दे] डोर, गुण, रस्सी (गा २११, वजा ६६) ।
 डोल अक [दोल्] १ डोलना, हिलना,

झूलना । २ सशयित होना, सन्देह करना । वक. डेलत (अचु ६०) ।
 डोल पु [दे] १ लोचन, आँख, नयन, गुजराती में 'डोलो', (दे ४, ६) । २ जन्तु-विशेष (घृह १) । ३ फल-विशेष (पचव २) ।
 डोल पु [दे] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४८, सुख ३६, १४८) ।
 डोला स्त्री [दोला] हिडोला, झूलना या झूला (हे १, २१७, पात्र) ।
 डोला स्त्री [दे] डाली, शिविका, पालकी (दे ४, ११) ।
 डोलाअत वि [दोलायमान] सशय करने-वाला, डँवाडोल (अचु ७) ।
 डोलाइअ वि [दोलायित] सशयित, डँवाडोल, 'भडस्स डोलाइअ हिअअ' (गा ६६६) ।

डोलायमाण देखो डोलाअत (निचू १०) ।
 डोलाविय वि [दोलित] कमित, पिन हुआ (पवम ३१, १२४) ।
 डोलिअ पु [दे] कृष्णसार, काला हिल (१४, १२) ।
 डोलिअ वि [दोलावत] डोलनेवाला, बन-वाला, 'दरडोलिरसीस' (कुमा) ।
 डोल्लगग पु [दे] पानी में होनेवाला नट-विशेष (सूअ २, ३) ।
 डोव [दे] देखो डोअ (एदि, उा ४२१) । स्त्री 'वा (पभा २७) ।
 डोसिणी स्त्री [दे] ज्योत्स्ना, चन्द्रशर चान्दी (पह) ।
 डोहल पु [दोहद] १ गर्भिणी का प्रभिलाप । मनोरथ, लालसा (हे १, २१६ कुमा) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवमि डयाराइसद्सकलणो
 वीसद्मो तरगो समत्तो ॥

ढ

ढ पु [ढ] व्यञ्जन वर्ण-विशेष, यह मूर्द्धन्य है, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्द्धा से होता है (प्रामा, प्राप) ।
 ढक पु [दे] काक, वायस, कौआ (दे ४, १३, ज २, प्राप, सण, भवि, पात्र) ।
 'वस्थुल न [वास्तुल] शाक विशेष, एक तरह की भाजी या तरकारी (धर्म २) ।
 ढक पु [ढक] कुम्भकार-जातीय एक जैन उपासक (विसे २३०७) ।
 ढक देखो ढक । भवि, ढकिसस (पि २२१) ।
 ढंकण न [दे] छादन १ ढकना, पिघान (प्रासू ६०, अणु) ।
 ढरुण देखो ढिकुण (राज) ।
 ढकणी स्त्री [दे] छादनी ढकनी, पिघानिका, ढकने का पात्र-विशेष (दे ४, १४) ।
 ढकिए देखो ढकिए (सिरि ५२६) ।

ढकुण पु [दे] मत्कुण, खटमल (दे ४, १४) ।
 ढकुण पु [ढकुण] वाद्य-विशेष (आचा २, १११) ।
 ढख देखो ढरु = (दि २१३, २२३) ।
 ढरुण पु न [दे] फल पत्र से रहित डाल, 'टखरमेसोचि हू महअरेण पुअको ए मालई-विडवो' (गा ७५५, वज्जा ५२) ।
 ढरुअ [दे] देना । गु० देवारा (प्राख्यानकम० को० नागनी आख्यानक पत्र—४ पत्र ६१) ।
 ढरुरी स्त्री [टे] वीणा-विशेष, एक प्रकार की वीणा (दे ४, १४) ।
 ढठ पु [दे] १ पक, नीच, फंदम, कांदो (दे ४, १६) । २ वि, निरयंग, निरम्मा (दे ४, १६, भवि) ।

ढठ पु [ढण्डण] एक जैन महर्षि, पराअपि (सुख २, ३१) ।
 ढठ वि [दे] दामिक, पट्टी (मम्मत् ११) ।
 ढठण पु [ढण्डन] स्वनाम-न्यात एर मुनि (विवे ३२, पठि) ।
 ढठगी स्त्री [दे] कनिष्क कुंवाच, व विशेष (दे ४, १३) ।
 ढठर पु [दे] १ शिशिर । २ ईर्ला (४, १६) ।
 ढठरिअ पु [दे] बरंम, पत्र, वारा, (दे ४, १५) ।
 ढठनल सक [अम] पूमाना, डिअन, अना करना । ढठनर (हे ६, १६१) ।
 ढठनिलिअ वि [अन] अना, पूम (कुमा) ।

५)। °पहु पु [°प्रभु] जिन-देव, अहंन् देव (उप ३२० टी)। °पाडिहेर न [°प्रातिहार्य] जिन देव की अहंता-सूचक देव-कृत अशोक वृक्ष आदि आठ बाह्य विभूतियां, वे ये हैं—१ अशोक वृक्ष, २ सुर-कृत पुष्प-वृष्टि, ३ दिव्य-ध्वनि, ४ चामर, ५ सिंहासन, ६ भामरएडल, ७ दुन्दुभि नाद, ८ छत्र (दस १)। °पालिय पु [°पालिन] चम्पा नगरी का निवासी एक श्रेष्ठिपुत्र (राया १, ९)। °विंन न [°विम्भ] जिन-मूर्ति, जिन देव की प्रतिमा (पडि, पचा ७)। °भड पु [°भट] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन आचार्य, जो सुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार श्रीहरिभद्र सुरि के गुरु थे (सार्ध ५८)। °भद् पु [°भद्र] स्वनाम-प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (आव ४)। °भवण न [°भवन] अहंन् मन्दिर (पचव ४)। °मय न [°मत] जैन दर्शन (पचा ४)। °माया वी [°मात्] जिन-देव की जननी (सम १५१)। °मुहा वी [°मुद्रा] जिनदेव जिस तरह से कायोत्सर्ग में रहते हैं उस तरह शरीर का विन्यास, आसन-विशेष (पचा ३)। °यद् देखो °चद (सुर १, १०, सुपा ७६)। °रक्खिथ पु [°रक्षित] स्वनाम ध्यात एक सार्धवाह-पुत्र (राया १, ९)। °वइ पु [°पति] जिन-देव, अहंन् देव (सुपा ८६)। °वई वी [°वाच्] जिन-देव की वारणी (वह १)। °वयण न [°वचन] जिन-देव की वारणी (ठा ६)। °वयण न [°वदन] जिनदेव का मुख (औप)। °वर पु [°वर] अहंन् देव (पउम ११, ४, अजि १)। °वरिद पु [°वरेन्द्र] अहंन् देव (उप ७७६)। °वलह पु [°वल्लभ] स्वनाम ध्यात एक जैन आचार्य और प्रसिद्ध स्तोत्र-कार (लहुप्र १७)। °वसह पु [°वृपभ] अहंन् देव (राज)। °सकहा वी [°सक्थि] जिन देव की अस्थि (भग १०, ५)। °सासण न [°शासन] जैन दर्शन (उत्त १८, सूअ १, ३, ४)। °हस पु [°हस] एक जैन आचार्य (द ४७)। °हर देखो °वर (पउम ११, ३, सुपा ३६१, महा)। °हरिम पु [°हर्ष] एक जैन मुनि (रयण ६४)। °ययण न [°यतन] जिन-देव का मन्दिर (पचव ४)।

जिणद देखो जिणिद, 'सव्वे जिणदा सुरविद-वदा' (पडि, जी ४८)। जिणकपि पु [जिनकल्पिन्] जैन मुनि का एक भेद (पचा १८, ६)। जिणण न [जयण] जय, जीत (सण)। जिणपह पु [जिनप्रभ] एक जैन आचार्य (ती ५)। जिणिद पु [जिनेन्द्र] जिन भगवान्, अहंन् देव (प्रासू ५२)। °गिह न [°गृह] जिन-मन्दिर (सुर ३, ७२)। °चद पु [°चन्द्र] जिन-देव (पउम ६५, ३६)। जिणिय वि [जित] परामृत, वशीकृत (सुपा ५२२, रयण २७)। जिणिसर देखो जिणेसर (सम्मत ७६, ७७)। जिणिसर देखो जिणेसर (पचा १६)। जिणुत्तम पु [जिनोत्तम] जिन-देव (अजि ४)। जिणेंद देखो जिणिद (वेइय ६०)। जिणेस पु [जिनेश] जिन भगवान्, अहंन् देव (सुपा २६०)। जिणेसर पु [जिनेश्वर] १ जिन देव, अहंन् देव (पउम २, २३)। २ विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के स्वनाम-ध्यात एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (सुर १६, २३६, सार्ध ७६, गु ११)। जिण वि [जीर्ण] १ पुराना, जर्जर (हे १, १०२, चाव ४६ प्रासू ७६)। २ पचा हुआ, 'जियणे भोग्गणमत्ते' (हे १, १०२)। ३ वृद्ध, वृद्धा (वह १)। सेट्ठि पुं [श्रेष्ठिन्] १ पुराना सेठ। २ श्रेष्ठि पद से व्युत्त (आव ४)। जिण (अप) देखो जिअ = जित (पिग)। जिणगासा वी [जिज्ञासा] जानने की इच्छा (पचा ३)। जिणिअ } जिण्णीअ } (अप) देखो जिणिय (पिग)। जिण्णोवभा वी [दे] दुर्वा, दूब (वास) (दे ३, ४६)। जिण्हु वि [जिण्णु] १ जित्वर, जीतनेवाला, विजयी (प्रामा)। २ पु अजुंन, मध्यम पाडव (गउड)। ३ विण्णु, श्रीकृष्ण। ४ सूर्य, रवि। ५ इन्द्र, देव नायक (हे २, ७५)।

जित्त देखो जिअ = जित (महा, सुपा ३६५, ६४३)। जिन्तिअ } वि [यावत्] जितना (हे २, जित्तिल } १५६, पड्)। जित्तुल (अप) ऊपर देखो (कुमा)। जिव (अप) अ [यथा] जैसे, जिम तरह से (हे ४, ४०१)। जिन्न देखो जिण (सुपा ६)। जिन्नासिय वि [जिज्ञासित] जानने के लिए इष्ट, जानने के लिए चाहा हुआ (भाम ७५)। जिनुद्धार पु [जिर्णोद्धार] पुराने और टूटे-फूटे मन्दिर आदि को सुधारना (सुपा ३८६)। जिन्व पु [जिह्व] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६, २६)। जिंन्वा वी [जिह्वा] जीभ, रसना (पएह २, ५, उप ६८६ टी)। जिन्मदिय न [जिह्वेन्द्रिय] रसनेन्द्रिय, जीभ (ठा ४, २)। जिन्मिया वी [जिह्विका] १ जीभ। २ जीभ के आकारवाली चीज (ज ४)। जिम सक [जिम्, भुज] जीमना, भोजन करना, खाना। जिमह (हे ४, ११०, पड्)। जिम (अप) देखो जिध (पड्, भवि)। जिमण न [जिमन, भोजन] जीमन, भोजन (आ १६, चैत्य ५६)। जिमण न [जिमन] जिमाना, भोज (धर्मवि ७०)। जिमिअ वि [जिमित, भुक्त] १ जिसने भोजन किया हुआ हो वह (पउम २०, १२७, पुण्य ३५, महा)। २ जो खिया गया हो वह, भक्षित (दे ३, ४६)। जिम्म देखो जिम = जिम्। जिम्मइ (हे ४, २३०)। जिम्ह पु [जिह्व] १ मेष-विशेष, जिसके बरसने से प्राय एक वर्ष तक जमीन में चिकनापन रहती है (ठा ४, ४—पत्र २७०)। २ वि कुटिल, कपटी, मायावी (सम ७१)। ३ मन्द, अलस (ज २)। ४ न. माया, कपट (वव ३)। जिम्ह न [जैम्ह] कुटिलता, वक्रता, माया, कपट (सम ७१)।

ढोइय वि [ढौकित] १ भेंट किया हुआ। २ उपस्थित किया हुआ (महा, सुपा १६८, भवि)।
ढोघर वि [दे] भ्रमण शील, घुमकड़, घूमनेवाला (दे ४, १५)।
ढोयण देखो ढोवण (चेडय ५२, कुप्र १६८)।

ढोयणिया ली [ढौकनिका] उपहार, भेंट (धर्मवि ७१)।
ढोल पु [दे] प्रिय, पति (सक्षि ४७, हे ४, ३३०)।
ढोल पु [दे] १ ढोल, पट्टह। २ देश विशेष, जिसकी राजधानी धौलपुर है (पिंग)।

ढोवण } न [ढौकन, क] १ भेंट करना, ढोवणय } भ्रमण करना (कुमा)। २ उपहार, भेंट (सुपा २८०)।

ढोविय वि [ढौकित] उपस्थापित, उपलब्ध किया हुआ (स ५०८)।

॥ इम सिरिपाइअसइमहणवन्मि ढयाराइसइसकलणो
एकवीसइमो तरगो समत्तो ॥

शा तथा न

ण पुं [ण, न] व्यञ्जन वर्ण-विशेष, इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा है, इससे यह मूर्धन्य कहाता है (प्राप, प्रामा)।
ण अ [न] निषेधार्थक अव्यय, नहीं, मत (कुमा, गा २, प्राप् १५६)। उण, उणा, उणाइ, उणो अ [पुन] न तु, नहीं कि (हे १, ६५, पड)। संतिपरलोकावाइ वि [शान्तिपरलोकवादिन्] मोक्ष और परलोक नहीं है ऐसा माननेवाला (ठा ८)।
ण स [तत्] वह (हे ३, ७०, कुमा)।
ण स [इदम्] यह, इस (हे ३, ७७, उप ६६०, गा १३१, १६६)।
ण वि [इ] जानकार, परिउत, विचक्षण (कुमा २, ८८)।
णअ देखो णव = नव (गा १०००, नाट—चैत ४२)। ढीअ पु [ढीप] बगाल का एक विख्यात नगर, जो न्याय-शास्त्र का केन्द्र गिना जाता है, जिसको आजकल नदिया कहते हैं (नाट—चैत १२६)।
णअचर देखो णत्तचर (चड)।
णइ ली [नति] १ नमन, नम्रता। २ भ्रव-सान, भ्रन्त (राय ४६)।
णइ अ. १ निश्चय सूचक अव्यय, 'गईए एइ' (हे २, १८४, षड)। २ निषेधार्थक अव्यय, 'नइ माया नेय पिया' (सुर २, २०६)।

णइ° देखो णई (गउड, हे २, ६७, गा १६७, सुर १३, ३५)।
णइअ वि [नयि] नय-युक्त, अभिप्राय-विशेष-वाला (सम ४०)।
णइअ देखो णी = नी।
णइमासय न [दे] पानी में होनेवाला फल-विशेष (दे ४, २३)।
णइराय न [नौरात्म्य] आत्मा का अभाव। 'वाद पु [वाद] आत्मा के अस्तित्व को नहीं माननेवाला दर्शन, बौद्ध तथा चार्वाक मत (धर्मस ११८५)।
णई ली [नदी] नदी, पर्वत आदि से निकला वह स्रोत जो समुद्र या बड़ी नदी में जाकर मिले (हे १, २२६, पाअ)। कच्छ पु [कच्छ] नदी के किनारे पर की भाड़ी (गाया १, १)। गाम पु [ग्राम] नदी के किनारे पर स्थित गाँव (प्राप्र)। गाह पु [नाथ] समुद्र, सागर (उप ७२८ टी)। वइ पु [पति] समुद्र, सागर (परह १, ३)। सतार पु [सतार] नदी उतरना, जहाज आदि से नदी पार जाना (राज)। सोत्त पु [स्रोतस्] नदी का प्रवाह (प्राप्र, हे १, ४)।
णउ (अप) देखो इव (कुमा)।
णउअ न [नयुत] 'नयुताग' को चौरासी

साव से गुराने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४, इक)।
णउअग न [नयुताङ्ग] 'प्रयुत' को चौरासी से गुराने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४, इक)।
णउइ ली [नवति] सख्या-विशेष, नब्बे, ९० (सम ६४)।
णउइय वि [नवत] ९० बाँ (पत्त ६७, ३१)।
णउल पु० [नकुल] १ न्योला, नेवाला (परह १, १, जी २२)। २ पाँचवा पाएडव (गाया १, १६)।
णउल पु [नकुल] बाघ विशेष (राय ४६)।
णउली ली [नकुली] एक महौषधि (ती ५)।
णउली ली [नकुली] विद्या-विशेष, सर्व-विद्य की प्रतिपक्ष विद्या (राज)।
ण अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—प्रश्न। २ उपमा (प्राक् ७६)।
ण अ १ वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया जा अव्यय (हे ४, २८३; उवा; पडि)। २ प्रसूचक अव्यय, ३ स्वीकार-द्योतक अर्थ (राज)।
ण (शौ) देखो णणु (हे ४, २८३)।
ण (अप) देखो इव (हे ४, ४४४, भवि, स पडि)।

जीविओसासिय वि [जीवितोच्छवासिक]

जीवन को बढ़ानेवाला (भग ६, ३३) ।

जीविगा देखो जीविआ (स २१८) ।

जीह अक् [रञ्ज्] लजा करना, शरमाना ।

जीहइ (हे ४, १०३, षड्) ।

जीहा ली [जिह्वा] जीभ, रसना (आचा-

स्वप्न ७८) । ल वि [वत्] लम्बी

जीभवाला (पउम ७, १२०, नमि ८, सुर

२, ६२) ।

जीहाविअ वि [लज्जित] लजा-युक्त किया

गया, लजाया गया (कुमा) ।

जु देखो जुज (कुमा) । कक्क जुज्जत (सम्म

१०७, से १२, ८७) ।

जुं ली [युध्] लडाई, युद्ध, 'जुधि वातिभए

धेप्पइ' (विसे ३०१६) ।

जु अ [दे] निश्चय-सूचक अव्यय (सा ४) ।

जुअ देखो जुग (से १२, ६०, इक, परह

१, १) । ६ युग, जोडा, उभय (पिंग, सुर

२, १०२, सुभा १६०) ।

जुअ वि [युत] युक्त सलग्न, सहित (दे १,

८१, सुर ४, ६४) ।

जुअ देखो जुव (गा २२८, कुमा, सुर २,

१७७) ।

जुअइ ली [युवति] तरुणी, जवान ली

(गउड, कुमा) ।

जुअजुअ (अप) अ [युतयुत] जुदा-जुदा,

अलग-अलग, भिन्न-भिन्न (हे ४, ४२२) ।

जुअण [दे] देखो जुअल = (दे) (पड्) ।

जुअणद्ध पु [युगानद्ध] ज्योतिष प्रसिद्ध एक

योग, जिसमे वैल के कचे पर रखे हुए युग—

जुभा या जुयाळ की तरह चन्द्र और सूर्य

तथा नक्षत्र अवस्थित होते हैं वह योग (सुज

१२—पव २३३) ।

जुअय न [युतरु] जुदा, प्रयक् (दे ७, ७३) ।

जुअरज्ज न [जौवराज्य] युवराज का भाव

या पद, युवराज (स २६८) ।

जुअल न [युगल] १ युग, जोडा, उभय

(पाप्र) । २ वे दो पद्य जिनका अर्थ एक

दूसरे से सापेक्ष हो (श्रा १४) ।

जुअल पु [दे] युवा, तरुण, जवान (दे

३, ४७) ।

जुअलिअ वि [दे] द्वियुगित (दे ३, ४७) ।

जुअलिय देखो जुगलिय (साया १, १) ।

जुअली ली [युगली] युग, जोडा (प्राक् ३८) ।

जुआण देखो जुवाण (गा ५७, २४६) ।

जुआरि ली [दे] जुआरि, अन्न-विशेष (सुपा

५४६, सुर १, ७१) ।

जुइ ली [द्युति] कान्ति, तेज, प्रकाश, चमक

(श्रीप, जीव ३) । म, मत वि [मत्]

तेजस्वी, प्रकाशशाली (स ६४१, पउम

१०२, १५६) ।

जुइ ली [युति] सयोग, युक्ता (ठा ३, ३) ।

जुइ पु [युगिन्] स्वनाम ब्यात एक जैन

मुनि (पउम ३२, ५७) ।

जुईम वि [द्युतिमत्] तेजस्वी (सूअ १,

६, ८) ।

जुउच्छ सक [जुगुप्स्] घृणा करना,

निन्दा करना । जुउच्छइ (हे ४, ४, षड्, मे

५, ५) ।

जुउच्छिय वि [जुगुप्सित] निन्दित

(निचू ४) ।

जुगिय वि [दे] जाति, कर्म या शरीर से

हीन, जिसको सत्यास देने का जैन शास्त्रो मे

निषेध है (पुष्क १२५) ।

जुगिय वि [दे] १ काटा हुआ (पिंड ४४६) ।

२ दूषित (सिरि २२३) ।

जुज सक [युज्] जोडना, युक्त करना ।

जुजइ (हे ४, १०६) । वक्क, जुजत (श्रीष

३२६) ।

जुजण न [योजन] जोडना, युक्त करना,

किसी कार्य मे लगाना (सम १०६) ।

जुजणया २ ली [योजना] १ ऊपर देखो

जुजणा } (श्रीप, ठा ७) । २ करण-विशेष—

मन, वचन और शरीर का व्यापार, 'मणव-

यणकायकिरिया पन्नरसविहाउ जुजणाकरण'

(विसे ३३६०) ।

जुजम [दे] देखो जुजुमय (उप ३१८) ।

जुजिअ वि [दे] वुसुक्षित, भूखा (साया १,

१—पत्र ६६, ६८ टी) ।

जुजुमय न [दे] हरा दृष्ट-विशेष, एक

प्रकार की हरी घास, जिसको पशु चाव से

खाते हैं (स ४८७) ।

जुजुठ वि [दे] परिग्रह-रहित (दे ३, ४७) ।

जुग पु [युग] १ काल-विशेष—सत्य, त्रेता,

द्वापर और कलि ये चार युग (कुमा) । २

पांच वर्ष का काल (ठा २, ४—पत्र ८६,

सम ७५) । ३ न, चार हाथ का यूप (श्रीप,

परह १, ४) । ४ शकट का एक अंग, धुर,

गाडी या हल खींचने के समय जो बैलो के

कन्धे पर रखे जाते हैं (उप पृ १३६, उत

२) । ५ चार हाथ का परिमाण (अणु) ।

६ देखो जुअ = युग । °पवर वि [°प्रवर]

युग श्रेष्ठ (भग) । °पहाण वि [°प्रधान]

१ युग-श्रेष्ठ (रभा) । २ पुं, युग-श्रेष्ठ जैन

आचार्य की एक उपाधि (पव २६४, युव

१) । °बाहु पुं [बाहु] १ विदेह वर्ष मे

उत्पन्न स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिनदेव (विपा

२, १) । २ विदेह वर्ष का एक नि-

खरडाधिपति राजा (आचू ४) । ३ मिथिला

का एक राजा (तित्य) । ४ वि यूप या खभा

की तरह लम्बा हाथवाला, दीर्घ बाहु (ठा ६) ।

°मच्छ पु [°मत्स्य] की एक जाति (विपा

१, ८—पत्र ८४ टी) °सवच्छर पुं

[°सवत्सर] वर्ष-विशेष (ठा ५, ३) ।

जुगत न [युगान्तर] यूप-परिमित भूमि-

भाग, चार हाथ जमीन (परह २, १) ।

°पलोयणा ली [°प्रलोचना] चलते समय

चार हाथ जमीन तक दृष्टि रखना (भग) ।

जुगधर न [युगधर] १ गाडी का काष्ठ-

विशेष, शकट का एक अवयव (ज १) । २

पुं विदेह वर्ष मे उत्पन्न एक जिन-देव (आचू

१) । ३ एक जैन मुनि (पउम २०, १८) ।

४ एक जैन आचार्य (भावम) ।

जुगल न [युगल] युग, जोडा, उभय (अणु,

राय) ।

जुगलि वि [युगलिन] ली-पुरुष के युग्म रूप

से उत्पन्न होनेवाला (रयण २२) ।

जुगलिय वि [युगलित] १ युग-युक्त, द्वन्द्व-

सहित (जीव ३) । २ युग रूप से स्थित

(राज) ।

जुगष वि [युगवत्] समय के उपद्रव से

वर्जित (अणु, राय) ।

जुगय } अ [युगपत्] एक ही साथ,

जुगय } एक ही समय मे, 'कारणकज-

आगम ग्रथ-विशेष (एदि) । ८ वाग्जा, अभिलाष, चाह (सम ७१) । ९ गन्वार ग्राम की एक मूर्छना (ठा ७) । १० पु स्वनाम रघात एक राजकुमार (विपा १, १) । ११ एक जैन मुनि, जो अपने आगामी भव में द्वितीय बलदेव होगा (पउम २०, १६०) । १२ वृक्ष-विशेष (पउम २०, ४२) । ३ आवत्त देखो ३ यावत्त (इक) । ३ उड्ड पु [३वृद्ध] एक प्राचीन कवि का नाम (कप्प) । ३ कर, ३ गर वि [३कर] मगल-कारक (कप्प, एयाया १, १) । ३ गाम पुं [३ग्राम] ग्राम-विशेष (उप ६१७, आङ्ग १) । ३ घोम पु [३वोप] १ बारह प्रकार के बाघों की आवाज (एदि) । २ न देवविमान-विशेष (सम १७) । ३ चुणगम न [३चूर्णक] होठ पर लगाने का एक प्रकार का चूर्ण (सुम १, ४, २) । ३ तूर न [३तूर्य] एक साथ बजाया जाता बारह तरह का वाद्य (वृह १) । ३ पुर न [३पुर] सारिडल्य देश का एक नगर (उप १०३१ टी) । ३ फल पु [३फल] वृक्ष-विशेष (एयाया १, ८, १५) । ३ भाण न [३भाजन्] उपकरण-विशेष (वृह १) । ३ मित्त पुं [३मित्त] १ देखो पांदि-मित्त (राज) । २ एक राजकुमार, जिसने भगवान् मल्लिनाथ के साथ दीक्षा ली थी (एयाया १, ८) । ३ मुडग पुं [३मुदङ्ग] एक प्रकार का युद्ध, वाद्य-विशेष (राय) । ३ मुह न [३मुख] पक्षि-विशेष (राज) । ३ यर देखो ३ कर (पउम ११८, ११७) । ३ यावत्त पु [३आवत्त] १ स्वस्तिक-विशेष (श्रीप, पएह १, ४) । २ एक लोकपाल देव (ठा ४, १) । ३ सुद्र जन्तु-विशेष (पएण १) । ४ न देव-विमान-विशेष (राज) । ३ राय पु [३राज] पारुवों के सम-कालीन एक राजा (एयाया १, १६—पत्र २०८) । ३ राय पु [३राग] समुद्रि में हर्ष (सग २, ५) । ३ रुक्ख पुं [३वृक्ष] वृक्ष-विशेष (पएण १) । ३ वड्डणा देखो ३ वद्धणा (इक) । ३ वद्धण पु [३वर्धन] १ भगवान् महावीर का ज्येष्ठ भ्राता (कप्प) । २ पक्ष-विशेष (कप्प) । ३ एक राजकुमार (विपा १, ६) । ४ न नगर-विशेष (सुया ६८) । ३ वद्धणा स्त्री [३वर्धना] १ एक

दिककुमारी देवी (ठा ८) । २ एक पुष्करिणी (ठा ४, २) । ३ सेण पुं [३पेण] १ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चतुर्थ जिन-देव (सम १५३) । २ एक जैन कवि (अजि ३८) । ३ एक राज-कुमार (ठा १०) । ४ स्वनाम रघात एक जैन मुनि (उव) । ५ देव-विशेष (राज) । ३ सेणा स्त्री [३पेणा] १ पुष्करिणी-विशेष (जीव ३) । २ एक दिककुमारी देवी (दीव) । ३ सेणिया स्त्री [३पेणिका] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत) । ३ स्सर पु [३स्वर] १ देखो पांदि-सर (राज) । २ बारह प्रकार के बाघों का एक ही साथ आवाज (जीव ३) । पांदिअ न [३दे] सिंह की चिल्लाहट, दहाड (दे ४, १६) । पांदिअ वि [३नन्दित] १ समुद्र (श्रीप) २ जैनमुनि-विशेष (कप्प) । पांदिक्ख पु [३दे] सिंह, मृगेन्द्र (दे ४, १६) । पांदिघोस पु [३नन्दिघोष] वाद्य विशेष (राय ४६) । पांदिज्ज न [३नन्दीय] जैन मुनियों का एक कुल (कप्प) । पांदिणो स्त्री [३नन्दिनी] पुत्री, लडकी (पउम ४६, २) । ३ पिउ पु [३पिट्ट] भगवान् महावीर का एक स्वनाम-रघात गृहस्थ उपासक (उवा) । पांदिणो स्त्री [३दे] गऊ, गैया, गाय (दे ४, १८, पाद्य) । पांदिण पु [३नन्दिण] आर्यमणु के शिष्य एक जैनमुनि (एदि ५०) । पांदिस्सर पु [३नन्दीश्वर] १ एक द्वीप । २ गदीसर पु [३नन्दिण] एक समुद्र (सुज्ज १६) । ३ एक देव विमान (देवेन्द्र १४४) । पांदि देखो पांदि (महा, शोध ३२१ भा, पएह १, १, श्रीप, सम १५२, एदि) । पांदि स्त्री [३दे] गऊ, गाय, गैया (दे ४, १८, पाद्य) । पांदिसर पु [३नन्दीश्वर] स्वनाम प्रसिद्ध एक द्वीप (एयाया १, ८, महा) । ३ वर पु [३वर] नन्दीश्वर-द्वीप (ठा ४, ३) । ३ वरोद पु [३वरोद] समुद्र-विशेष (जीव ३) । पांदिउत्तर पु [३नन्दोत्तर] देव-विशेष, नाग-कुमार के भूतानन्द-नामक इन्द्र के रथ सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १, इक) । ३ वडि-

सग न [३वत्तसक] एक देव विमान (सम २६) । पांदिउत्तरा स्त्री [३नन्दोत्तरा] १ परिव्रत लक पर्वत पर रहनेवाली एक दिककुमारी देवी (ठा ८, इक) । २ कृष्णानामक इन्द्राणी की एक राजधानी (जीव ३) । ३ पुष्करिणी विशेष (ठा ४, २) । ४ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत ७) । पांकार पु [३पाकार, नकार] 'ण' या 'न' अक्षर (विसे २८६७) । पाक पु [३नक्र] १ जलबन्तु-विशेष, ग्राह, नाका (पएह १, १, कुमा) । २ रावण का एक स्वनाम रघात सुभद्र (पउम ५६, २८) । पाक पु [३दे] १ नाक, नासिका (दे ४, ४६, विपा १, १, श्रीप) । २ वि, मूक, नाका वाचा-शक्ति से रहित, मूंग (दे ४, ४६) । ३ सिरा स्त्री [३सिरा] नाक का छिद्र (पाद्य) । पाक्खर पु [३नक्खर] १ राक्षस । २ शेर । ३ बिडाल । ४ वि रात्रि में चलने फिरे वाला (हे १, १७७) । पाक्ख पु [३नक्ख] नख, नाखन (हे २, ६६, प्राप्र) । ३ अ वि [३ज] नख से उत्पन्न (गा ६७१) । ३ आउइ पु [३आयुध] सिंह मुगारि (कुमा) । पाक्खत्त पुन [३नक्खत्त] कृत्तिका, अश्रिनी, भरणी आदि ज्योतिष्क-विशेष (पाद्य, कप्प, इक, सुज्ज १०) । ३ दमण पु [३दमण] राक्षस-वश का एक राजा, एक लकेश (पउम ५, २६६) । ३ मास पु [३मास] ज्योतिष्क शास्त्र में प्रसिद्ध समय-मात्र विशेष (वव १) । ३ सुह न [३सुख] चन्द्र, चाँद (एज) । ३ सवच्छर पु [३सवत्सर] ज्योतिष्क-शास्त्र प्रसिद्ध वर्ष-विशेष (ठा ६) । पाक्खत्त वि [३नक्खत्त] १ क्षत्रिय-जाति । २ अयोग्य कार्य करनेवाला (वमवि ३) । पुन एक देव-विमान (देवेन्द्र १४२) । पाक्खत्त वि [३नाक्खत्त] नसान-सम्बन्धी, नन का (ज ७) । पाक्खत्तणेमि पु [३दे नक्खत्तणेमि] विप नारायण (दे ४, २२) । पाक्खत्तण न [३दे] नख और करटक नि सने का शत्रु विशेष (वृह १) ।

जुहिङ्गिर } देखो जहिङ्गिर (पिंग, उप
जुहिङ्गिर } ६४८ टी, राया १, १६—
जुहिङ्गिर } पत्र २०८, २२६) ।

जुहु सक [हु] १ देना, अर्पण करना । २ हवन करना, होम करना । जुहुणामि (ठा ७—पत्र ३८१, पि ५०१) ।

जूअ न [चूत] जुआ, चूत (पात्र) । ० कर वि [०कर] जुआरी, जुए का खिलाडी (सुपा ५२२) । ०कार वि [०कार] वही पूर्वोक्त अर्थ (राया १, १८) । ०कारि वि [०कारिन्] जुआरी (महा) । ०केलि स्त्री [०केलि] चूत-स्त्रीबा (रयण ४८) । ०खल्य न [०खलक] जुआ खेलने का स्थान (राज) । ०केलि देखो 'केलि (रयण ४७) ।

जूअ पु [यूप] १ जुआ, धुर, गाडी का अवयव-विशेष जो बैलो के कन्धे पर डाला जाता है, जुआड (उप पृ १३६) । २ स्तम्भ विशेष, 'ब्रह्महस्त मुल सहस्र च उस्तवेह' (कप्प) । ३ यज्ञ-स्तम्भ (ज ३) । ४ एक महापाताल-कलश (पव २७२) ।

जूअअ पु [दे] चातक पक्षी (दे ३, ४७) ।

जूअग पु [यूपक] देखो जूअ = यूप (सम ७१) ।

जूअग पु [यूपक] सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिश्रण (ठा १०) ।

जूआ स्त्री [यूका] १ जूँ, चीलड, खटमल, शुद्ध कीट-विशेष (जी १६) । २ परिमाण-विशेष, आठ लिखा का एक नाप (ठा ६, इक) । ३ सेजायर वि [०शय्यातर] यूकामो को स्थान देनेवाला (भा १५) ।

जूआर वि [चूतकार] जुआरी, जुए का खिलाडी (रभा, भवि, सुपा ४००) ।

जूआरि } वि [चूतकारिन्] जुआ खेलने-
जूआरिअ } वासा, जुए का खिलाडी (द्र ४३,
सुपा ४००, ४८८, स १५०) ।

जूफ देखो जुफम् = युष् । कृ यूम्नियन्व (सिरि १०२५) ।

जूड पु [जूट] कुन्तल, केश-कलाप (दे ४, २४, भवि) ।

जूय न [यूप] लगातार छ दिनों का उपवास (सवोव ५८) ।

जूयय } पु [यूपक] शुक्ल पक्ष की द्वितीया
जूयय } आदि तीन दिनों में होती चन्द्र की
कला और सन्ध्या के प्रकाश का मिश्रण (अणु १२०, पव २६८) ।

जूर सक [गर्ह] निंदा करना । जूरति (सूध २, २, ५५) ।

जूर अक [क्रुध्] क्रोध करना, गुस्सा करना । जूरड (हे ४, १३२, षड्) ।

जूर अक [खिद] खेद करना, अफसोस करना । जूरड (हे ४, १३२, षड्) । जूर (कुमा) । भवि जूरहिद (हे २, १६३) । वकृ जूरत (हे २, १६३) ।

जूर अक [जूर] १ झुरना, सूखना । २ सक वध करना, हिंसा करना (राज) ।

जूरण न [जूरग] १ सूखना, झुरना । २ निन्दा, गर्हण (राज) ।

जूरव सक [वञ्चच्] ठगना, वचना । जूरवड (हे ४, ६३) ।

जूरवण वि [वञ्चन्] ठगनेवाला (कुमा) ।

जूरावण न [जूरण] झुराना, शोषण (भा ३, २) ।

जूराविअ वि [क्रोधित] क्रुद्ध किया हुआ, कोपित (कुमा) ।

जूरिअ वि [खिन्न] खेद प्राप्त (पात्र) ।

जूरुम्मिलय वि [दे] गहन, निविड, सान्द्र (दे ३, ४७) ।

जूल देखो जूर = क्रुध् । जूल (गा ३५४) ।

जूव देखो जूअ = चूत (राया १, २—पत्र ७६) ।

जूव } देखो जूअ = यूप (इक, ठा ४,
जूवय } २) ।

जूस देखो भूस (ठा २, १, कप्प) ।

जूस पुन [यूप] बूस, मूँग वगैरह का क्वाथ, कढी (शोष १४७, ठा ३, १) ।

जूसअ वि [दे] उत्कृष्ट, फेंका हुआ (पड्) ।

जूसणा स्त्री [जोषणा] सेवा (कप्प) ।

जूसिय वि [जुष्ट] १ सेवित (ठा २, १) । २ क्षपित, क्षीण (कप्प) ।

जूह न [यूथ] समूह, जत्था (ठा १०, गा ५४८) । वड पु [०पति] समूह का अधि-पति, यूथ का नायक (से ६, ६८, राया १, १, सुपा १३७) । ०हिव पु [०धिप]

पूर्वोक्त ही अर्थ (गा ५४८) । ०हिवड पु [०धिपति] यूथ-नायक (उत्त ११) ।

जूह न [यूथ] युग्म, युगल, जोडा (आचा २, ११, २) । ०काम न [०काम] लगातार चार दिनों का उपवास (सवोव ५८) ।

जूहिय वि [यूथिक] यूथ में उत्पन्न (आचा २, २) ।

जूहियठाण न [यूथिस्थान] विवाह-भरडप वाली जगह (आचा २, ११, २) ।

जूहिया स्त्री [यूथिका] लता-विशेष, जूही का पेड (परण १, पउम ५३, ७६) ।

जूही स्त्री [यूथी] लता-विशेष, माधवी लता (कुमा) ।

जे अ १ पाद-पूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (हे २, २१७) । २ अवधारण-सूचक अव्यय (उव) ।

जेअ वि [जेय] जीतने योग्य (रुक्मि ५०) ।

जेअ वि [जेत्] जीतनेवाला (सूध १, ३, १, १, १, ३, १, २) ।

जेउ वि [जेत्] जीतनेवाला, विजेता (भा २८, २) ।

जेउआण }

जेउं } देखो जिण = जि ।

जेऊण }

जेकार पुं [जयकार] 'जय-जय' श्रावाज स्तुति, 'हुंति देवार जेकारो' (गा ३३२) ।

जेट्ट देखो जिट्ट = ज्येष्ठ (हे २, १७२, महा, उवा) ।

जेट्ट देखो जिट्ट = ज्येष्ठ (महा) ।

जेट्टा देखो जिट्टा (सम ८, आच ४) । ०मूल पु [०मूल] जेठ मास (श्रीप, राया १, १३) । ०मूलां स्त्री [०मूली] जेठ मास की पूर्णिमा (सुज १०) ।

जेट्टामूली स्त्री [ज्येष्ठामूली] १ जेठ मास की पूर्णिमा । २ जेठ मास की अमावस्या (सुज १०, ६) ।

जेण देखो जइण = जैन (सम्मत्त ११७) ।

जेण अ [येन] लक्षण-सूचक अव्यय, 'अमररुअ जेण कमलवण' (हे २, १८३, कुमा) ।

जेत्त वि [यावन्] जितना । स्त्री. ०त्ती (हास्य १३०) ।

णडी खी [नटी] १ नट की खी (गा ६, ठा ६) । २ लिपि विशेष (विसे ४६४ टी) । ३ नाचनेवाली खी (बृह ३) ।

णडुली खी [दे] कच्छप, कछुआ (दे ४, २०) ।
णडूल न [नड्डुल] १ नगर विशेष (मोह ८८) । २ पु देश-विशेष (ती १५) ।

णडुरी खी [दे] भेक, मेढक, बेंग (दे ४, २०) ।
णडूल न [दे] १ रत, मैथुन । २ दुर्दिन, मेघान्छन्न दिवस (दे ४, ४७) ।

णडु डुलो देखो णडुली (दे ४, २०) ।
णणदा खी [ननानट] पति की वहिन, ननद (षड्, हे ३, ३५) ।

णणु अ [ननु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ भ्रवधारण, निख्य (प्रासू १६१, निचू १) ।
२ धाराका । ३ वितर्क । ४ प्रश्न (उव, सण, प्रति ५५) ।

णणु पु [दे] १ कूप, कुआँ । २ दुर्जन, खल । ३ बडा भाई (दे ४, ४६) ।

णत्त न [नक्त] रात्रि, रात (चद १०) ।

णत्त देखो णत्तु, 'अकनिवेशिनियनियपुत्त-
पडिपुत्तनत्तपुत्तीय' (सुपा ६) ।

णत्तचर देखो णक्कचर (कुमा, पि १७०) ।

णत्तण न [नत्तन] नाच, नृत्य (नाट—शकु ८०) ।

णत्ति खी [ज्ञप्ति] ज्ञान (धर्मस ८२८, एवि ६७ टी) ।

णत्तिअ पु [नत्तक] १ पौत्र, पुत्र का पुत्र पोता । २ दौहित्र, पुत्री का पुत्र, नाती (हे १, १३७, कुमा) ।

णत्तिआ } खी [नत्ती] १ पुत्र की पुत्री,
णत्ती } पौत्री (कुमा) । २ पुत्री की पुत्री, नातिन, नतिनी (राज) ।

णत्तु } वुं [नत्त, क] देखो णत्तिअ
णत्तुअ } (निर २, १, हे १, १३७, सुपा १६२, विपा १, ३) ।

णत्तुआ देखो णत्तिआ (बृह १, विपा १, ३) ।

णत्तुइपी खी [नत्तुकिनी] १ पौत्र की खी ।
२ दौहित्र की खी (विपा १, ३) ।

णत्तुई देखो णत्ती (विपा १, ३, कप्प) ।

णत्तुणिअ वुं [नत्तु] १ पौत्र, पोता । २ भ्रपौत्र, परपोता (वस ७, १८) ।

णत्तुणिआ देखो णत्तिआ (वस ७, १५) ।

णत्थ वि [न्यस्त] स्थापित, निहित (एया १, १, ३, विसे ६१६) ।

णत्थण न [दे] नाक मे छिद्र करना (सुर १४, ४१) ।

णत्था खी [दे] नामा-रञ्जु, नाथा या नाथ (दे ४, १७, उवा) ।

णत्थि अ [नास्ति] अभाव-सूचक अव्यय (कप्प, उवा, सम्म ३६) ।

णत्थिअ वि [नास्तिअ] १ परलोक आदि नही माननेवाला (प्राह) । २ पु नास्तिक-मत का प्रवर्तक, चार्वाक । 'वाय पु [वाद्] नास्तिक-दर्शन (उप १३२ टी) ।

णत्थियवाइ वि [नास्तिअवादिअ] आत्मा आदि के अस्तित्व को नही माननेवाला (धर्मवि ४) ।

णद् सक [नद्] नाद करना, आवाज करना ।
वक्क णद्त (सम ५०, नाट—गृच्छ १५५) ।

णद् पु [नद्] नाद, आवाज, शब्द, 'गद्देव्व गवा मज्जे विस्सर नयई नद्' (सम ५०) ।
णद्दी देखो णद्दी (से ६, ६५, परण ११) ।

णद्दिअ वि [दे] दु खित (दे ४, २०) ।

णद्दिअ न [नदिअ] घोष, आवाज, शब्द (राज) ।

णद्ध वि [नद्ध] १ परिहित, आच्छादित (गा ५२०, पउम ७, ६२, सुपा ३५५) । २ नियन्त्रित, बँधा हुआ (सुपा ३५५) ।

णद्ध वि [नद्ध] कचंचित, वमित (धर्मवि ४) ।

णद्ध वि [दे] आरूढ (दे ४, १८) ।

णद्धेअवय न [दे] १ अष्टुणा, छुणा या धिन का अभाव । २ निन्दा (दे ४, ४७) ।

णपहुत्त वि [अप्रभूत] अपर्याप्त, अपरिपूर्ण, अथेष्टरहित (गड्ड) ।

णपहुत्तपत्त वि [अप्रभूत] अपर्याप्त होता (गड्ड) ।

णपुस } पुन [नपुसरु] नपुसक, क्लीव,
णपुसग } नामदं, षड (शोध २१, आ १६,
णपुसय } ठा ३, १, सम ३७, महा) । 'वेय पु [वेद्] कर्म-विशेष, जिसके उदय से खी और पुरुष दोनों के स्पर्श की बाण्ड्या होती है (ठा ६) ।

णप्प सक्क [ञ्जा] जानना । एण्णइ (अण) ।
णम देखो णह = नमस् (हे १, १८७, कुमा वसु) ।

णमसूरय पु [नभ शूरक] कृष्ण पुङ्ग विशेष, राहु (सुज २०) ।

णम सक [नम] नमन करना, प्रणाम करना ।

एयामि (भग) । वक्क णमत्त, णममाण (पि ३६७, आवा) । कक्क णमिज्जत्त (से ६, ३५) । सक्क णमिऊण, णमिऊण, णमेऊण (खी १, पि ५८५, महा) । क णमणिज्ज, णमियव्व (रखण ४६, उ २११ टी, पउम ६६, २१) । सक्क णमिअ (कम्म ४, १) ।

णमस सक [नमस्य] नमन करना, नमस्कार करना । एमसाइ (भग) । क णमसमाण (एया १, १, भग) । सक्क णमसित्ता (ठा ३, १, भग) । क णमसित्तए (उवा) । क णमसणिज्ज, णमसियव्व (श्रीप, सुपा ६३८, पउम ३५, ४६) ।

णमसण न [नमस्यण] नमन, नमस्कार (अजि ५, भग) ।

णमसणया } खी [नमस्यणा] प्रणम,
णमसणा } नमस्कार (भग, सुपा ६०) ।

णमसिय वि [नमस्यिय] जिसको नमन किया गया हो वह (परह २, ४) ।

णमक्कार देखो णमोक्कार (गड्ड, पि ३०६) ।

णमण न [नमण] प्रणति, प्रणाम, नमना (दे ७, १६, रखण ४६) ।

णमसिअ न [दे] उपयाचितक, सनौती (दे ४, २२) ।

णमि पु [नमि] १ स्वनाम-ख्यात एकीसवां जिन-देव (सम ४३) । २ स्वनाम प्रसिद्ध राजपि (उत्त ३६) । भगवान् श्रुपभवेव का एक पौत्र (वण १४) ।

णमिअ वि [नव] प्रणत, जिसने नमन किया हो वह, 'पडिअक्खरायाएणी तस्स राएण नमिया' (महा) ।

णमिअ वि [नमित] नमाया हुआ (पि ६६०) ।

णमिअ देखो णम ।

जोइस पु [ज्यौतिप] १ देवो की एक जाति, सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि (कल्प, श्रौप, दड २७)। २ न सूर्य आदि का विमान (ति १२, जो १)। ३ शास्त्र-विशेष, ज्योतिष-शास्त्र (उत्त २)। ४ सूर्य आदि का चक्र। ५ सूर्य आदि का मार्ग, आकाश, 'जे गहा जाइसम्मि चार चरति' (परए ३)।

जोइस पु [ज्यौतिप] १ सूर्य, चन्द्र आदि देवो की एक जाति (कल्प, पचा २)। २ वि ज्योतिष शास्त्र का जानकार, जोतिपी (सुपा १५६)।

जोइसिअ वि [ज्यौतिपिक] १ ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, दैवज्ञ, जोतिपी (स २२, सुर ४, १००, सुपा २०३)। २ सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्क देव (श्रौप, जी २४, परए २)। १ राय पु [राज] १ सूर्य, रवि। २ चन्द्रमा (परए २)।

जोइसिद पु [ज्योतिरिन्द्र] १ सूर्य, रवि। २ चन्द्र, चन्द्रमा (ठा ६)।

जोइसिण पु [ज्यौत्स्न] शुक्ल पक्ष (जो ४)।

जोइसिणा स्त्री [ज्योत्स्ना] चन्द्र की प्रसा, चन्द्रिका, चांदनी (ठा २, ४)। पक्ष पु [पक्ष] शुक्ल पक्ष (चद १५)। भा स्त्री [भा] चन्द्र की एक अग्र-महिषी (भग १०, ५)।

जोइसिणी स्त्री [ज्यौतिपी] देवी-विशेष (परए १७—पत्र ४६६)।

जोई स्त्री [दे] विद्युत्, बिजली (दे ३, ४६, पड)।

जोईरस देखो जोइ-रस (कल्प, जीव ३)।

जोईस पु [योगीश] योगीन्द्र, योगि-राज (स १)।

जोईसर पु [योगीश्वर] ऊपर देखो (सुपा ८३, रयए ६)।

जोइरुण न [योगकर्ण] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६ टी)।

जोइरुणिय न [योगकर्णिक] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६)।

जोकार देखो जेकार (गा ३३२ अ)।

जोकर वि [दे] मलिन, अपवित्र (दे ३, ४८)।

जोग देखो जुग = युग्म, 'सपाउयाजोग समाजुत्त' (राय ४०)।

जोग पु [योग] नक्षत्र-समूह का क्रम से चन्द्र और सूर्य के साथ सबध (सुज १०, १)।

जोग पु [योग] १ व्यापार, मन, वचन और शरीर की चेष्टा (ठा ४, १, सम १०, स ४७०)। २ चित्तनिरोध, मन-प्रणिधान, समाधि (पउम ६८, २३, उत १)। ३ वश करने के लिए या पागल आदि बनाने के लिए फँका जाता चूर्ण-विशेष, 'जोगो मइमोह-करो सीसे खित्तो इमाण सुत्ताण' (सुर ८, २०१)। ४ सम्बन्ध, संयोग, मेलन (ठा १०)। ५ ईप्सित वस्तु का लाभ (एयाया १, ५)। ६ शब्द का अन्वयवार्थ-सम्बन्ध (भास २४)। ७ बल, वीर्य, पराक्रम (कम्म ५)। 'कत्थेम न [त्थेम] ईप्सित वस्तु का लाभ और उसका संरक्षण (एयाया १, ५)। 'त्थ वि [स्थ] योग-निष्ठ, ध्यान-लीन (पउम ६८, २३)। 'त्थ पु [ार्थ] शब्द के अन्वयवो का अर्थ, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द का अर्थ (भास २४)। 'दिट्ठि स्त्री [ट्ठि] चित्त-निरोध से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष (राज)। 'धर वि [धर] समाधि में कुशल, योगी (पउम ११६, १७)। 'परि-व्वाइया स्त्री [परिज्जिका] समाधि-प्रधान व्रतितो-विशेष (एयाया १, ६)। पिड पु [पिण्ड] वशीकरण आदि के प्रयोग से प्राप्त की हुई भिक्षा (पचा १३, निच १३)। 'मुहा स्त्री [मुद्रा] हाथ का विन्यास-विशेष (पचा ३)। 'व वि [वत्] १ शुभ प्रवृत्तिवाला (सूत्र १, २, १)। २ योगी, समाधि करनेवाला (उत्त ११)। 'वाहि वि [वाहिन] १ शास्त्र ज्ञान की आराधना के लिए शास्त्रोक्त तपश्चर्या को करनेवाला। २ समाधि में रहनेवाला (ठा ३, १—पत्र १२०)। 'विहि पुत्री [विधि] शास्त्रो की आराधना के लिए शास्त्र-निर्दिष्ट अनुष्ठान, तपश्चर्या-विशेष, 'इय वुत्तो जोगविही', 'एसा जोगविही' (अग)। सत्थ न [शास्त्र] चित्त-निरोध का प्रतिपादक शास्त्र (उवर १६०)।

जोग पु [योग] १ व्यापार, मन, वचन और शरीर की चेष्टा (ठा ४, १, सम १०, स ४७०)। २ चित्तनिरोध, मन-प्रणिधान, समाधि (पउम ६८, २३, उत १)। ३ वश करने के लिए या पागल आदि बनाने के लिए फँका जाता चूर्ण-विशेष, 'जोगो मइमोह-करो सीसे खित्तो इमाण सुत्ताण' (सुर ८, २०१)। ४ सम्बन्ध, संयोग, मेलन (ठा १०)। ५ ईप्सित वस्तु का लाभ (एयाया १, ५)। ६ शब्द का अन्वयवार्थ-सम्बन्ध (भास २४)। ७ बल, वीर्य, पराक्रम (कम्म ५)। 'कत्थेम न [त्थेम] ईप्सित वस्तु का लाभ और उसका संरक्षण (एयाया १, ५)। 'त्थ वि [स्थ] योग-निष्ठ, ध्यान-लीन (पउम ६८, २३)। 'त्थ पु [ार्थ] शब्द के अन्वयवो का अर्थ, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द का अर्थ (भास २४)। 'दिट्ठि स्त्री [ट्ठि] चित्त-निरोध से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान-विशेष (राज)। 'धर वि [धर] समाधि में कुशल, योगी (पउम ११६, १७)। 'परि-व्वाइया स्त्री [परिज्जिका] समाधि-प्रधान व्रतितो-विशेष (एयाया १, ६)। पिड पु [पिण्ड] वशीकरण आदि के प्रयोग से प्राप्त की हुई भिक्षा (पचा १३, निच १३)। 'मुहा स्त्री [मुद्रा] हाथ का विन्यास-विशेष (पचा ३)। 'व वि [वत्] १ शुभ प्रवृत्तिवाला (सूत्र १, २, १)। २ योगी, समाधि करनेवाला (उत्त ११)। 'वाहि वि [वाहिन] १ शास्त्र ज्ञान की आराधना के लिए शास्त्रोक्त तपश्चर्या को करनेवाला। २ समाधि में रहनेवाला (ठा ३, १—पत्र १२०)। 'विहि पुत्री [विधि] शास्त्रो की आराधना के लिए शास्त्र-निर्दिष्ट अनुष्ठान, तपश्चर्या-विशेष, 'इय वुत्तो जोगविही', 'एसा जोगविही' (अग)। सत्थ न [शास्त्र] चित्त-निरोध का प्रतिपादक शास्त्र (उवर १६०)।

जोग देखो जोग, 'इय सो न एत्थ जोगो,

जोगो पुण होइ अमकूरो' (वम्म १२, मुर २, २०५, महा, सुपा २०८)।

जोगि देखो जोइ = योगिन् (कुमा)।

जोगिन् पु [योगीन्द्र] महान योगी, योगीश्वर (रयए २६)।

जोगिणी देखो जोइणी (सुर ३, १८६)।

जोगिय वि [योगिक] दो पदों के सम्बन्ध से बना हुआ शब्द, जैसे—उप-करोति, अभि-पेयति (परह २, २—पत्र ११५)। २ यन्त्र-प्रयोग से बना हुआ (उप पृ ६५)।

जोगीसर देखो जोईसर (स २०१)।

जोगेसरी स्त्री [योगेश्वरी] देव विशेष (सए)।

जोगेसी स्त्री [योगेशी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)।

जोग्य वि [योग्य] योग्य, उचित, लायक (ठा ३, १, सुपा २८)। २ प्रभु, समर्थ, शक्तिमान् (निच २०)।

जोग्या स्त्री [दे] चाट, खुशामद, (दे ३, ४८)।

जोग्या स्त्री [योग्या] १ शास्त्र का अभ्यास (भग ११, ११, ज ३)। २ गर्भ-धारण में समर्थ योनि (तदु)।

जोज देखो जोअ = योजय्। भवि जोज-इस्सामि (कुप्र १३०)। कृ जोज्ज (उत्त २७, ८)।

जोड सक [योजय्] जोडना, संयुक्त करना। वकृ जोडेत (सुर ४, १६)। सकृ जोडिऊण (महा)।

जोड पुन [दे] १ नक्षत्र (दे ३, ४६, पि ६)। २ रोग-विशेष (सए)।

जोड (अप) स्त्री [दे] जोडी, युगल, 'एरिस जोड न जुत्त' (कुप्र ४५३)।

जोडिअ पु [दे] व्याध, वहेलिया, चिडीमार (दे ३, ४६)।

जोडिअ वि [योजित] जोवा हुआ, संयुक्त किया हुआ (सुपा १५६, ३५१)।

जोग पु [योन, यवन] म्लेच्छ देश-विशेष (एयाया १, १)।

जोगि स्त्री [योनि] १ उत्पत्ति-स्थान (भग, स ८२, प्रासु ११५)। २ कारण, हेतु, उपाय (ठा ३, ३, पचा ४)। ३ जीव का उत्पत्ति-स्थान (ठा ७)। ४ स्त्री-चन्द्र, भग (अणु)। 'विहाण न [विधान] उत्पत्ति-

पाराच } पुं न [नाराच] १ लोहमय बाण ।
पाराअ } २ संहनन-विशेष, शरीर की रचना
का एक प्रकार (हे १, ६७) । ३ छन्द-विशेष
(पिंग) ।

पारायण पु [नारायण] श्रीकृष्ण, विष्णु
(पिंग) ।

पारिंद पु [नरेन्द्र] १ राजा, नरेश (सम
१५३, प्रासू १०७, कल्प) । २ गार्हपिक,
सर्प के विप को उतारनेवाला (स २१६) ।
°कत न [°कान्त] देव-विमान-विशेष (मम
२२) °पह पु [°पथ] राज मार्ग, महापथ
(पउम ७६, ८) । °वसह पु [°वृषभ] श्रेष्ठ
राजा (उत्त ६) ।

पारिंदुत्तरवडिसग न [नरेन्द्रोत्तरावतसक]
देव-विमान-विशेष (सम २२) ।

पारीस पु [नरेश] राजा, नरपति, 'सो भर-
हृदनरीसो होही पुरिसो न सवेहे' (सुर १२,
८०) ।

पारीसर पु [नरेश्वर] राजा, नरपति (अजि
११) ।

पारुत्तम पु [नरोत्तम] श्रीकृष्ण (सिरि
४२) ।

पारुत्तम पु [नरोत्तम] उत्तम पुरुष (पउम
४८, ७५) ।

पारेद देखो पारिंद (पि १५६, पिंग) ।

पारेसर देखो पारीसर (उप ७२८ टी, सुपा
५५, ५६१) ।

पाल न [नड] तुण-विशेष, भीतर से पोला
शराकार तृण (हे २, २०२, ठा ८) ।

पाल न [नळ] १ ऊपर देखो (पराए १, उप
१०३१ टी, प्रासू ३३) । २ पु राजा राम-
चन्द्र का एक सुभट (से ८, १८) । ३ वैश्रमण
का एक स्वनाम-ख्यात पुत्र (अत ५) ।
°कुब्बर, °कूबर पु [°कूबर] १ दुर्लभपुर
का एक स्वनाम-ख्यात राजा (पउम १२,
७२) । २ वैश्रमण का एक पुत्र (आवम) ।
°गिरि पु [°गिरि] नएडप्रद्योत राजा का
एक स्वनाम-ख्यात हाथी (महा) ।

पालय न [दे] उशीर, खस का तृण (दे ४,
१६, पाअ) ।

पालाड देखो पडाल (हे २, १२३, कुमा) ।

पालाडंतव वि [ललाटन्तप] ललाट को
तपानेवाला (कुमा) ।

पालिअ न [दे] गृह, घर मकान (दे ४,
२०, पड) ।

पालिण न [नलिण] १ लगातार तेईस दिन का
उपवास (सवोष ५८) । २ पुन एक देव-
विमान (देवेन्द्र १३२) ।

पालिण न [नलिण] १ रक्त कमल (राय-
चद १०, पाअ) । २ महाविदेह वर्ष का एक
विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, ३) । ३
'नलिनाग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो
सख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४, इक) । ४
देव-विमान विशेष (सम ३३, ३५) । ५
रुचक पर्वत का एक शिखर (दीव) । °कूड
पु [°कूट] वक्षस्कार-पर्वत-विशेष (ठा २,
३) । °गुम्म न [°गुल्म] १ देव-विमान-
विशेष (सम ३५) । २ वृष-विशेष (ठा ८) ।
३ अर्धयन-विशेष (आव ४) । ४ राजा
श्रेणिक का एक पुत्र (राज) । °वई व्ही
[°वती] विदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश
विशेष (ठा २, ३) ।

पालिणग न [नलिनाङ्ग] संख्या-विशेष, पस
को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या
लब्ध हो वह (ठा २, ४, इक) ।

पालिणि } व्ही [नलिनी] कमलिनी, पचिनी
पालिणी } (पाअ, राया १, १) । °गुम्म
देखो पालिण-गुम्म (निर २, १, विसे) ।
°वण न [°वन] उद्यान-विशेष (राया २) ।

पालिणोदग पु [नलिनोदक] समुद्र-विशेष
(दीव) ।

पालिय न [दे] १ वृत्ति विवर, बाड का छिद्र ।
२ प्रयोजन । ३ निमित्त, कारण । ४ वि
कर्दमित, कीचवाला (दे ४, ४६)

पव देखो पाम । एवइ (पड, हे ४, १५८,
२२६) ।

पव वि [नव] नया, नूतन, नवीन (गउड,
प्रासू ७१) । °वहुया, °वहू व्ही [°वधू]
नवोहा, दुलहिन (हेका ५१, सुर ३, ५२) ।

पव त्रि व [नवन] सख्या-विशेष, नव, ९
(ठा ६) । °इ व्ही [°ति] सख्या-विशेष नब्बे,
६० (सए) । °ग न [°क] नव का समुदाय
(दे ३८) । °जोयणिय वि [°योजनिक]

नव योजन का परिमाणवाला (ठा ६) ।

°णउइ, °नउइ व्ही [°नवति] सख्या विशेष,
निच्यानवे, ६६ (सम ६६, १००) । °नय
वि [°नयत्] ६६ वां (पउम ६६, ७५) ।
°नवइ देखो °णउइ (कम्म २, ३०) ।
°नवमिया व्ही [°नवमिका] जैन साधु का
व्रत-विशेष (सम ८८) । °म वि [°म]
नववां (उवा) । °मी व्ही [°मी] तिपि विशेष,
पस का नववां दिवस (सम २६) । °मीपस
पु [°मीपक्ष] आठवां दिन, अष्टमी (व ३) ।
पवकार देखो पामोकार (सई १, चेल ३,
सए) ।

पवकारसी व्ही [नमस्कारसहित] प्रला
ख्यान-विशेष, व्रत विशेष (सवोष ५७) ।

पवख (अप) वि [नन] अनोला, नूतन, नया
(हे ४, ४२२) । व्ही °व्ही (हे ४, ४२०) ।

पवणीअ पुन [नवनीत] नयत्त मन्कन, मल्ला
(कम्म, औप, प्रामा), 'अणलहओअ न
णोओ' (पउम ११८, २३) ।

पवणीइया व्ही [नवनीतिका] वनस्पति
विशेष (पराए १) ।

पवपय न [नवपद] नमस्कार-पत्र (सिरि
५७६) ।

पवमालिया व्ही [नवमालिका] पुण-अवान
वनस्पति-विशेष, वसती नेवारी, नेवार (कम्म) ।
पवमिया व्ही [नवमिका] १ रुचक पर्वत पर
रहनेवाली एक दिवकुमारी देवी (ठा ८) ।
२ सख्युह्यनामक इन्द्र की एक अन्न महिणी
(ठा ४, १) । ३ शक्रेन्द्र की एक पटरानी
(ठा ८) ।

पवय देखो पव-ग (पचा १७, ३०) ।

पवय देखो पयय (राया १, १७) ।

पवयार देखो पवकार (पचा १, पि ३०६) ।
पवय सक [कथ] कहना । कर्म एवरिइ
(प्राक ७७) ।

पवर } अ १ केवल, सिर्फ फल (हे २, १८७,
पवर } कुमा, पड उवा सुपा ८, जी २७,
गा १५) । २ अनन्तर, बाद में (हे २, १८८,
प्राप्र) ।

पवरया } पु [नवरङ्ग, °क] १ नूतन रंग,
पवरगय } नया वर्ण (सुर ३, ५२) । २
छन्द-विशेष (पिंग) । ३ कोसुम्म रंग का
वस्त्र (गउड, गा २४१, सुर ३, ५२, पाअ) ।

भस्त्र वि [दे] तुष्ट, सतुष्ट, खुश (दे ३, ५३) ।
भस्त्रण न [उपालम्भ] उपालम्भ, उलाहना (कुमा) ।

भस्त्रण पु [दे] शुष्क तरु, सूखा पेड़ (दे ३, ५४) ।

भस्त्रिअ [दे] देखो भस्त्रिअ (दे ३, ५६) ।

भस्त्रावण वि [सतापक] सताप करनेवाला (कुमा) ।

भस्त्रि वि [नि श्रसिद] नि श्रस लेनेवाला (कुमा ७, ४४) ।

भस्त्र पु [भस्त्र] कलह, भगडा (सम ५०) ।

°कर वि [°कर] कलहकारी, फूट करानेवाला (सम ३७) । पत्त वि [°प्राप्त] क्लेश-प्राप्त (सूत्र १, १३) ।

भस्त्रण } अक [भस्त्रणाय] 'भन-भन'
भस्त्रणक } शब्द करना । भस्त्रणइ (गा ५७५ अ) । भस्त्रणकइ (पिंग) ।

भस्त्रणा स्त्री [भस्त्रणा] 'भन भन' शब्द (गड) ।

भस्त्रा स्त्री [भस्त्रा] वाद्य-विशेष, भाँक, भाल (राय ५० टी) ।

भस्त्रा स्त्री [भस्त्रा] १ प्रचण्ड वाद्य-विशेष (गा १७०, सण) । २ कलह, क्लेश, भगडा (उव, बृह ३) । ३ माया, कपट । ४ क्रोध, गुस्सा (सूत्र १, १३) । ५ तुष्णा, लोभ (सूत्र २, २) । ६ व्याकुलता, व्यग्रता (ग्राचा) ।

भस्त्रिय वि [भस्त्रिय] बुधुक्षित, भूला (गाया १, १) ।

भस्त्र सक [भ्रम्] घूमना, फिरना । भस्त्रइ (हे ४, १६१) ।

भस्त्र अक [गुञ्ज] गुजारव करना । वक्क 'भस्त्रमिरभमरजलमालिय मालिय गहिउ' (सुपा ५२६) ।

भस्त्रण न [भ्रमण] पर्यटन, परिभ्रमण (कुमा) ।

भस्त्रिअ स्त्री [दे] चक्रमण, कुटिल गमन (दे ३, ५५) ।

भस्त्रिअ वि [दे] जिस पर प्रहार किया गया हो वह, प्रहृत (दे ३, ५५) ।

भस्त्री स्त्री [दे] छोटा किन्तु ऊँचा केश कलाप (दे ३, ५३) ।

भस्त्रली स्त्री [दे] असती, कुलटा (दे ३, ५४) ।
भस्त्रुअ पु [दे] वृक्ष-विशेष, पीलु का पेड़ (दे ३, ५३) ।

भस्त्रुली स्त्री [दे] असती, कुलटा । २ क्रीडा, खेल (दे ३, ६१) ।

भस्त्रिय वि [दे] प्रदुत, पलायित, भगाया हुआ (पड) ।

भस्त्र सक [भ्रम्] घूमना, फिरना । भस्त्रइ (हे ४, १६१) ।

भस्त्र सक [आ + च्छादय] भाँपना, आच्छादन करना, ढकना । भस्त्रइ (पिंग) ।
सक्क भस्त्रिअण, भस्त्रिअ (कुमा, भवि) ।

भस्त्र सक [आ = क्रामय] आक्रमण करवाना । भस्त्रइ (प्राक ७०) ।

भस्त्रण वि [भ्रमण] भ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) ।

भस्त्रण न [भ्रमण] परिभ्रमण, पर्यटन (कुमा) ।

भस्त्रणी स्त्री [दे] पक्षम, भाल की बरौनी, भाल के बाल (दे ३, ५४, पात्र) ।

भस्त्रा स्त्री [भस्त्रा] एकदम कूदना, भस्त्रा पात (सुपा १६८) ।

भस्त्रिअ वि [दे] १ बुद्धित, दूटा हुआ । २ घट्टित, ग्राह्य (दे ३, ६१) ।

भस्त्रिअ वि [आच्छादित] भस्त्रा हुआ, ढक किया हुआ (पिंग), 'पईवओ भस्त्रिओ भस्त्रि' (महा), 'तओ एव भस्त्रमाणस्स सहल्येण भस्त्रिअ मुहकुहर सुमइस्स णाइलेण' (महानि ४) ।

भस्त्रिअ न [द्] वचनीय, लोक-निन्दा (दे ३, ५, भवि) ।

भस्त्र देखो भस्त्र = वि + लप् । वक्क भस्त्रत (जय २३) ।

भस्त्र पु [दे] भगडा, कलह (सुपा ५४६, ५४७) ।

भस्त्रुली स्त्री [दे] प्रमिसारिका, प्रिय से मिलने के लिए सकेत स्थान पर जानेवाली स्त्री या न्यायिका (विक्र १०१) ।

भस्त्रण पु [भस्त्रण] १ वाद्य-विशेष, भाँक । २ पटह, ढोल । ३ कलि-युग । ४ नद-विशेष (पि २१४) ।

भस्त्रणिय वि [भस्त्रणिय] वाद्य विशेष के शब्द से युक्त (ठा १०) ।

भस्त्रणी स्त्री [दे] दूसरे के स्पर्श को रोकने के लिए चाडाल लोग जो लकड़ी अपने पास रखते हैं वह (दे ३, ५४) ।

भस्त्र अक [शद्] १ भडना, पके फल ग्रादि का गिरना, टपकना । २ हीन होना । ३ सक. भस्त्र मारना, गिराना । भस्त्रइ (हे ४, १३०) ।
वक्क भस्त्रत (कुमा) । कवक्क 'वासामु सीय-वाएहि भस्त्रिअणो' (आव १) । सक्क 'भस्त्रिअण पल्लविह्मा, पुणोवि जायति तरुणा सुरिय । धीराणवि घणरिद्धी, गयावि न हु दुल्लहा एव' (उप ७२८) ।

भस्त्रिअ अ [भस्त्रिअ] शीघ्र, जल्दी, तुरत, (उप ७२८ टी; महा) ।

भस्त्रण अ [दे] शीघ्रता, जल्दी (उप ११०, रमा) ।

भस्त्रण सक [आ + छिद्] भस्त्रण, भस्त्रण मारना, छीनना । भस्त्रणमि (भवि) । सक्क भस्त्रणपिअ (भवि) ।

भस्त्रणपड न [दे] भस्त्रण, भस्त्रिअ, शीघ्र (हे ४, ३८८) ।

भस्त्रणपिअ वि [आच्छिन्न] छीना हुआ (भवि) ।

भस्त्रिअ अ [भस्त्रिअ] शीघ्र, जल्दी, तुरन्त, 'भस्त्रिअणपल्लवइ पुणो' (गा ६१३) ।

भस्त्रिअ वि [दे] १ शिथिल, ढीला, सुस्त (गा २३०) । २ श्रान्त, विन्न, (पड) । ३ भडा हुआ, गिरा हुआ, 'करच्छडाभस्त्रिय-पक्खिअले' (पडम ६६, १५) ।

भस्त्रिअ देखो भस्त्रण, (सु २, ४) ।

भस्त्रिअ देखो जडिल (हे १, १६४) ।

भस्त्री स्त्री [दे] निरन्तर वृष्टि, भस्त्री, गुजराती मे 'भस्त्री' (दे ३, ५३) ।

भस्त्रण सक [जुगुप्स्] घृणा करना । भस्त्रणइ (पड) ।

भस्त्रणभ्रमण अक [भस्त्रणभ्रमणाय] 'भन-भन' भ्रामण करना । वक्क भस्त्रणभ्रमणत (प्राप) ।
भस्त्रणभ्रमणिय वि [भस्त्रणभ्रमणिय] 'भन-भन' भ्रामणवाला (पिंग) ।

भस्त्रणभ्रमण देखो भस्त्रणभ्रमण । भस्त्रणभ्रमणइ (वजा ६६) ।

भस्त्रणभ्रमणारव पु [भस्त्रणभ्रमणारव] 'भन-भन' भ्रामण (महा) ।

पाइ (अप) देखो इव (कुमा) ।
 पाइ (अप) नीचे देखो (भवि) ।
 पाइ देखो ण = न (हे २, १६०, उवा) ।
 पाइणी (अप) स्त्री [नागी] नागिन, सर्पिणी (भवि) ।
 पाइत्त } पुं [दे] जहाज द्वारा व्यापार
 पाइत्तग } करनेवाला सौदागर (उप पु १०१, उप ५६२) ।
 पाइय वि [नादित] १ उक्त, कथित, पुकारा हुआ (गाया १, १, औप) । २ न आवाज, शब्द (गाया १, १) । ३ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (राय) ।
 पाइल पु [नागिल] १ स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि (कप्प) । २ जैन मुनियों का एक वंश (पउम ११८, ११७) । ३ एक श्रेष्ठी (महानि ४) ।
 पाइला } स्त्री [नागिला] जैन मुनियों की
 पाइली } एक शाखा (कप्प) ।
 पाइल्ल देखो पाइल (विचार ५३४) ।
 पाइव वि [ज्ञातित्त] स्वजन-युक्त, नातेदार (उत्त ४) ।
 पाउ वि [ज्ञाउ] जानकार, जाननेवाला (द्र ६) ।
 पाउड्ड पु [दे] १ सद्भाव, सन्निष्ठा । २ अभिप्राय । ३ मनोरथ, वाञ्छा (दे ४, ४७) ।
 पाउल्ल वि [दे] गोमान्, जिसके पास अनेक गैया हो (दे ४, २३) ।
 पाउ }
 पाऊण } देखो पा = ज्ञा ।
 पाऊण }
 पाग पुन [नाक] स्वर्ग, देवलोक (उप ७१२) ।
 पाग पु [नाग] १ सर्प, साँप (पउम ८, १७८) । २ भवनपति देवो की एक अवान्तर जाति, नाग-कुमार देव (एदि) । ३ हस्ती-हाथी (औप) । ४ वृक्ष-विशेष (कप्प) । ५ स्वनाम-ख्यात एक गृहस्थ (अत ४) । ६ एक प्रसिद्ध वंश । ७ नाग-वंश में उत्पन्न (राज) । ८ एक जैन आचार्य (कप्प) । ९ स्वनाम-ख्यात एक द्वीप । १० एक समुद्र (सुज १६) । ११ वक्षस्कार-पर्वत विशेष (ठा २, ३) । १२ न ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण (विसे ३३५०) । कुमार पुं [कुमार]

भवनपति देवो की एक अवान्तर जाति (सम ६६) । °केसर पुं [°केसर] पुष्प-प्रधान वनस्पति विशेष (राज) । °ग्गह पुं [°ग्रह] नाग देवता के अविशेष से उत्पन्न षडर आदि (जीव ३) । °जण्ण, °जन्न पुं [°यज्ञ] नाग पूजा, नाम देवता का उत्सव (गाया १, ८) । °जुण पु [°जुन] एक स्वनाम-ख्यात जैन आचार्य (एदि) । °दत्त पु [°दन्त] खूँटी (जीव ३) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक स्वनाम-ख्यात राज पुत्र (ठा ३, ४, सुपा ५३५) । २ एक श्रेष्ठी-पुत्र (आक) । °पइ पु [°पति] नाग कुमार देवो का राजा, नागेन्द्र (औप) । °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (पउम २०, १०) । °वाग पु [°वाण] दिव्य अस्त्र-विशेष (जीव ३) । °भइ पु [°भद्र] नाग द्वीप का अधिष्ठाता देव (सुज १६) । °भूय न [°भूत] जैन मुनियों का एक कुल (कप्प) । °महाभइ पु [°महाभद्र] नागद्वीप का एक अधिष्ठाता देव (सुज १६) । °महावर पुं [°महावर] नाग समुद्र का अधिपति देव (सुज १६, इक) । °मिन्त पु [°मित्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि, जो आर्य महागिरि के शिष्य थे (कप्प) । °राय पु [°राज] नागकुमार देवो का स्वामी, इन्द्र-विशेष (पउम ३, १४७) । °रुख पु [°वृक्ष] वृक्ष-विशेष (ठा ८) । °लया स्त्री [°लता] वल्ली-विशेष, ताम्बूली लता (परण १) । °वर पु [°वर] १ श्रेष्ठ सर्प । २ उत्तम हाथी (औप) । ३ नाग समुद्र का अधिपति देव (सुज १६) । °वली स्त्री [°वल्ली] लता-विशेष (सण) । °सिरी स्त्री [°श्री] द्रौपदी के पूर्व जन्म का नाम (उप ६४८ टी) । °सुहुम न [°सूक्ष्म] एक जेनेतर शास्त्र (अणु) । °सेण पु [°सेन] एक स्वनाम-ख्यात गृहस्थ (आवम) । °हत्थि पु [°हस्तिन्] एक प्राचीन जैन ऋषि (एदि) ।

पागणिय न [नागन्य] नग्नता, नगापन (सूअ १, ७) ।

पागदत्ता स्त्री [नागदत्ता] चौदहवें जिनदेव की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) ।

पांगपरियाविणिया स्त्री [नांगपरियापतिनी] एक जैन शास्त्र (एदि २०२) ।

पागरं वि [नागरं] १ नगर सम्बन्धी । २ नगर का निवासी, नागरिक (सुर ३, ६६, महा) ।

पागरिअ पु [नागरिक] नगर का रहनेवाला (रभा) ।

पागरिआ स्त्री [नागरिका] नगर में रहनेवाली स्त्री (महा) ।

पागरी स्त्री [नागरी] १ नगर में रहनेवाली स्त्री । २ लिपि विशेष, हिन्दी लिपि (विं ४६४ टी) ।

पागिद पु [नागेन्द्र] १ नाग देवो का इन्द्र २ शेषनाग (सुपा ७७, ६३६) ।

पागिणी स्त्री [नागी] १ नागिन । २ ए वसिष्क-पुत्री (कुप्र ४०८) ।

पागिल देखो पाइल (राज) ।

पागी स्त्री [नागी] नागिन, सर्पिणी (आव ४, पागेंद देखो पागिंद (गाया १, ८) ।

पागोद पु [नागोद] एक समुद्र (सुज १६ पाड देखो णट्ट = नाट्य (गाया १, १ टी-पत्र ४३) ।

पाडइज्ज वि [नाटकीय] नाटक-सम्बन्ध नाटक में भाग लेनेवाला पात्र (गाया १, १, कप्प) ।

पाडइणी स्त्री [नाटकिनी] १ नर्तकी नाचनेवाली स्त्री (वृह ३) ।

पाडग } न [नाटक] १ नाटक, अभिनय
 पाडय } नाट्य-क्रिया (वृह १, सुपा १, ३५६, सार्ध ६५) । २ रग शाला में खेलने में उपयुक्त काव्य (हे ४, २७०) ।

पाडाल देखो णडाल (गड) ।

पाडि स्त्री [नाडि] १ रज्जु, बरना । २ नाडी, नस, सिरा (कुमा) ।

पाडो स्त्री [नाडो] ऊपर देखो (हे १, २०२) ।
 पाडोअ पु [नाडोअ] वनस्पति-विशेष (सं १०, ७) ।

पाण न [ज्ञान] ज्ञान, बोध, चतन्य, बुद्धि (भग ८, २, हे २, ४२, कुमा, प्रासु २८) ।
 धरं वि [धर] जानी, जानकार, विद्वान् (सुपा ५०८) । °पवाय न [°प्रवाद]

टक्क पु [दे] लकडी आदि के आघात की आवाज (कुप्र ३०६)।

टट्टइथा स्त्री [दे] जवनिका, परदा (दे ४, १)।

टप्पर वि [दे] विकराल कर्णवाला, भयकर कानवाला (दे ४, २, सुपा ५२०, कप्पू)।

टमर पु [दे] केश-चय, बाल-समूह (दे ४, १)।

टयर देखो टगर (कुमा)।

टलटल अक [टलटलाय्] 'टल-टल' आवाज करना। वक्क टलटलत (प्रासू १६३)।

टलटलिय वि [टलटलित] 'टल-टल' आवाज वाला (उप ६४८ टी)।

टलवल अक [दे] १ तडफडाना, तडपना। २ धवराना, हैरान होना। टलवलति (धर्मवि ३८)। वक्क टलवलत (सरि ६०८)।

टल्लिअ वि [दे] टला हुआ, हटा हुआ (सिरि ६८३)।

टसर न [दे] विमोटन, मोडना (दे ४, १)।

टसर पु [त्रसर] टसर, एक प्रकार का सूता (हे १, २०५, कुमा)।

टसरोट्ट न [दे] शेखर, अवतस (दे ४, १)।

टहरिय वि [दे] ऊँचा किया हुआ, 'टहरिय-कन्नो जाओ मियुव्व गीइ कहँ सोज (धर्मवि १४७, सम्मत १५८)।

टार पु [दे] अघम, अश्व, हठी घोडा (दे ४, २), 'अइसिक्खिओवि न मुअइ, अणय टारव्व टारत्त' (आ २७)। २ टट्ट, छोटा घोडा (उप १५५)।

टाल न [दे] कोमल फल, गुठली उत्पन्न होने के पहले की अवस्था वाला फल (दस ७)।

टिट्ट } [दे] देखो टेटा (भवि)। 'साला टिट्टा } स्त्री ['शाला] जुआखाना, जुआ खेलने का अड्डा (सुपा ४६५)।

टिवरु } पुन [दे] वृक्ष-विशेष, तेंदू का पेड़
टिवरुअ } (दे ४, ३, उप १०३१ टी, पाअ)।

टिवरुणी स्त्री [दे] ऊपर देखो (पि २१८)।

टिक्क न [दे] १ टीका, तिलक। २ सिर का स्तवक, मस्तक पर रक्खा जाता गुच्छा (दे ४, ३)।

टिक्किद (शौ) वि [दे] तिलक विभूषित (कप्पू)।

टिग्घर वि [दे] स्थविर, वृद्ध, बूढा (दे ४, ३)।

टिट्टिअ पु [टिट्टिअ] १ पक्षि-विशेष, टिट्टि-हरी, टिट्टिहा। २ जल-जन्तु विशेष (सुर १०, १८५)। स्त्री 'मी (विपा १, ३)।

टिट्टियाव सक [दे] बोलने की प्रेरणा करना, 'टिट्टि' आवाज करने को सिखलाना।

टिट्टियावेइ (णाय १, ३)। कवक्क टिट्टिया-वेज्जमाण (णाय १, ३—पव ६४)।

टिप्पणय न [टिप्पणक] विवरण, छोटी टीका (सुपा ३२४)।

टिप्पी स्त्री [दे] तिलक, टीका (दे ४, ३)।

टिरिटिल्ल सक [अम्] धूमना, फिरना, चलना। टिरिटिल्लइ (हे ४, १६१)। वक्क टिरिटिल्लत (कुमा)।

टिल्लिक्खिय वि [दे] विभूषित (धर्मवि ५१)।

टिविडिक्क सक [मण्डय्] मण्डित करना, विभूषित करना। टिविडिक्कइ (हे ४, ११५, कुमा)। वक्क टिविडिक्कत (सुपा २८)।

टिविडिक्खिअ वि [मण्डित] विभूषित, अलंकृत (पाअ)।

टुट वि [दे] छिन्न-हस्त, जिसका हाथ कटा हुआ हो वह (दे ४, ३, प्रासू १४२, १४३)।

टुट्टण अक [टुट्टणाय्] 'टुन टुन' आवाज करना। वक्क टुट्टणत (गा ६८५, काप्र ६६५)।

टुवय पु [दे] आघात-विशेष, गुजराती में 'डुवो' (सुर १२, ६७)।

टुट्ट अक [टुट्ट] टूटना, कट जाना। टुट्टइ (पिंग)। वक्क टुट्टत (से ६, ६३)।

टुप्परग न [दे] जैन साधु का एक छोटा पात्र (कुलक ११)।

टुवर पु [टुवर] १ जिसको दाटी-मूँछ न उगी हो ऐसा चपरासी। २ जिसने दाटी-मूँछ कटवा दी हो ऐसा प्रतिहार (हे १, २०९, कुमा)।

टेट पुं [दे] १ मध्य-स्थित मण्डि-विशेष। वि. भीपण (कप्पू)।

टेटा स्त्री [दे] जुआखाना, जुआ खेलने का अड्डा (दे ४, ३)।

टेटा स्त्री [दे] १ अक्षि-मोलक। २ छाती का शुष्क त्रण (कप्पू)।

टैवरुय न [दे] फल-विशेष (आचा २, १, ८, ६)।

टेकर न [दे] स्थल, प्रदेश (दे ४, ३)।

टोक्कण } न [दे] दारू नापने का वरतन
टोक्कणखड } (दे ४, ४)।

टोपिआ स्त्री [दे] टोपी, सिर पर रखने का सिला हुआ एक प्रकार का वस्त्र (सुपा २६३)।

टोप्प पु [दे] श्रेष्ठि-विशेष (स ४५१)।

टोप्परपुन [दे] शिरस्त्राण विशेष, टोपी (पिंग)।

टोल पु [दे] १ शलभ, जन्तु-विशेष। २ पिशाच (दे ४, ४, प्रासू १६२)। 'गइ स्त्री

['गति] गुरु-वन्दन का एक दोष (पव २)।

'गइ स्त्री ['कृति] प्रशस्त आकारवाला (राज)।

टोल पु [दे] १ टिड्डी, टिडी (पव २)। २ मूथ (कुप्र ५८)।

टोलव पु [दे] मधुक, वृक्ष-विशेष, महुआ का पेड़ (दे ४, ४)।

॥ इअ सिरिपाइअसदमहणवम्मि टयाराइसदसकलणो

अट्टारहमो तरगो समत्तो ॥

गारग पु [नारङ्ग] १ वृक्ष-विशेष, सतरे का वृक्ष । २ न फल-विशेष, कमला नीबू, सतरा (पत्रम ४१, ६, सुपा २३०, ५६३, गडड, कुमा) ।

गारग देखो गारय = नारक (विसे १६००) ।

गारद देखो गारय (प्रथी ५१) ।

गारदीअ वि [नारदीय] नारद-सम्बन्धी, नारद का (प्रथी ५१) ।

गारय पु [नारद] १ मृनि-विशेष, नारद ऋषि (सम १५४ उप ६४८ टी) । २ गन्धर्व सैन्य का अधिपति देव-विशेष (ठा ७) ।

गारय वि [नारक] १ नरक में उत्पन्न, नरक-सम्बन्धी, नरक का, 'जायए नारय दुक्ख' (सुपा १६२) । २ पु नरक में उत्पन्न प्राणी, नरक का जीव (भग) ।

गारसिह वि [नारसिह] नरसिह सम्बन्धी (उप ६४८ टी) ।

गाराय पु [नाराच] तौलने की छोटी तराजू, नाँटा, 'नाराय निरक्खर लोहवत्त दोमुह य तुष्क किं भणियो । गुंजाए सम कणय तौलतो कह न लज्जे सि ?' (वज्जा १५८, १५६) ।

गाराय देखो गाराअ (हे १, ६७, उवा, सम १४६, अजि १४) । तुला, गुं ताजूडी (पुष्प-माला ४६, ८६) । 'वज्ज न [वज्ज] संहनन-विशेष (पत्रम ३, १०६) ।

गारायण पु [नारायण] १ विष्णु, श्रीकृष्ण (उत्ता स ६२२) । २ अर्ध-चक्रवर्ती राजा (पत्रम ५, १२२, ७२, २०) ।

गारायण पु [नारायण] एक ऋषि (सूत्र १, ३, ४, २) ।

गारायणी स्त्री [नारायणी] देवी विशेष, गौरी, दुर्गा (गडड) ।

गारिं देखो गारी (कम्प, राज) । 'कता स्त्री [कान्ता] नदी-विशेष (सम २७, ठा २, ३) ।

गारिएर } पु [नारिकेल] १ नारियल का गारिएरल } फल । २ न नारियल या नरियर का फल (अभि १२७, पि १२८) । देखो गालिअर ।

गारिग न [नारिङ्ग] नारंगी का फल, मोठा नीबू, कमला नीबू (कम्प) ।

गारी स्त्री [नारी] १ स्त्री, औरत, जनाना, महिला (हिका २२८, प्राप् ६२, १५६) ।

२ नदी-विशेष (इक) । 'कतप्पवाय पु [कान्ताप्रपात] ब्रह्म-विशेष (ठा २, ३) । देखो गारिं' ।

गारुट्ट पु [दे] कूसार, गर्ताकार स्थान (पाथ) ।

गारोट्ट पुं [दे] १ विल, सोंप आदि का रहने का स्थान, विवर । २ कूसार, गर्ताकार स्थान (दे ४, २३) ।

गाल न [नाल] १ कमल-दण्ड (से १, २८) । २ गर्भ का आवरण (उप ६७४) ।

गालदइज्ज वि [नालन्दीय] १ नालन्दा-सम्बन्धी । न नालदा के समीप में प्रतिपादित अध्ययन-विशेष, 'सूत्रकृतांग' सूत्र का सातवाँ अध्ययन (सूत्र २, ७) ।

गालदा स्त्री [नालन्दा] राजगृह नगर का एक मुहल्ला (कम्प, सूत्र २, ७) ।

गालपिअ न [दे] आकन्दित, आकन्द-ध्वनि (दे ४, २४) ।

गालवि पुं [दे] कुन्तल, केश कलाप (दे ४, २५) ।

गालय न [नालक] द्यूत-विशेष (मोह ८६) ।

गाला } स्त्री [नाहि] नाडी, नस, सिरा (से १, गालि } २८, कुमा) ।

गालि स्त्री [नालि] परिमाण-विशेष, अजली (भावक ३५) ।

गालि वि [दे] अस्त, गिरा हुआ (षड्) ।

गालिअ वि [दे] मूढ, मूर्ख, अज्ञान (से ४, ४२२) ।

गालिअर देखो गारिएर (दे २, १०, पत्रम १, २०) । 'दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष (कम्म १, १६) ।

गालिआ } स्त्री [नालिआ] १ नाल, डंडी, गालिआ } कमल की डंडी (दस ५, २, १८) ।

२ परिमाण-विशेष, दंड, धनुष (अणु १५७) । ३ अर्ध मुहूर्त का समय, 'दो नालिया मुहूर्तो' (तदु ३२) । ४ नली, 'जह उ किर नालियाए धणिय मिदुइयपोम्हभरियाए' (धर्मस ६८०) । 'खेडु न [खेल] द्यूत-विशेष (ज २ टी—पत्र १३६) ।

गालिआ स्त्री [नालिआ] १ धल्लो-विशेष (दे २, ३) । २ घटिका, घडी, काल नापने का एक तरह का यन्त्र (पाथ, विसे ६२७) । ३ अपने शरीर में चार अणुल लम्बी लाठी (शोध ३६) । ४ द्यूत-विशेष, एक तरह का

जुआ (शौप, भग ६, ७) । 'खेडु स्त्री [क्रीडा] एक तरह की द्यूत-क्रीडा (शौप) । गालिएर देखो गारिएर (शापा १, ६) ।

गालिएरी स्त्री [नारिकेली] नरियर का गाल (गडड, पि १२६) ।

गाली स्त्री [नाली] १ वनस्पति विशेष, एक लता (परण १) । २ घटिका, घडी (जीव ३) ।

गाली स्त्री [नाली] १ द्यूत विशेष (दस ३, ४) । २ तीन हाथ और सोलह अणुल लंबी लट्टी या लग्गी (बॉस) (पव ८१) ।

गाली स्त्री [नाडी] नाडी, नस, सिरा (विपा १, १) ।

गालीय वि [नालीय] नाल सम्बन्धी (पाचा) ।

गालीया देखो गालिआ (सूत्र १, ६, १८) ।

गावइ (अप) देखो इव (हे ४, ४४४ भवि) ।

गावण न [दे] दान, वितरण (परह १, ३—पत्र ५३) ।

गावा स्त्री [दे] प्रसूति, अजली, परिमाण विशेष (पव १०६ टी) ।

गावा स्त्री [नौ] नौका, जहाज, नाव (भग, उवा) । 'वाणिय पु [वाणिज] समुद्र मार्ग से व्यापार करनेवाला वणिक् (शापा १, ८) ।

गावापुरय पु [दे] जुहुक, जुष्ण, 'तिहि एवापुरएहि आयामई' (बह १) ।

गाविअ पु [नापित] नाई, हजाम (हे १, २३०, कुमा, षड्) । 'माला स्त्री [शाल] नाइयो का अड्डा (आ १२) ।

गाविअ पु [नाविक] बहाज चलानेवाला, नौका या नाव हाकनेवाला, मल्लाह, केवट, मॉम्मी (शापा १, ६, सुर १३, ३१) ।

गास देखो गरस । खासइ (पड्, महा) । बह गासत (सुर १, २०२, २, २५) । कृ पासियन्व (सुर ७, १२६) ।

गास सक [नाशय] नाश करना । खासइ (हे ४, ३१) । खासइ (महा, उर) ।

गास पु [नाश] नाश, धरष (अणु १५३, पाथ) । 'यर वि [कर] नाश-कारक (सुर १२, १६४) ।

गास पु [न्यास] १ स्थापन (गा ६६, उर ३०२) । २ घरोहर या प्रमानत, रखने योग्य धन आदि (उप ७६८ टी, धर्म २) ।

ठाणग न [स्थानक] शरीर की चेष्टा-विशेष (पचा १८, १५) ।

ठाणि वि [स्थानिन्] स्थानवाला, स्थान-युक्त (सूत्र १, २, उव) ।

ठाणिज्ज देखो ठा ।

ठाणिज्ज वि [दे] १ गौरवित, सम्मानित (दे ४, ५) । २ न गौरव (षड्) ।

ठाणुकडिय } वि [स्थानोत्कटुक] १ उत्क-
ठाणुकडिय } टुक आसनवाला (पण्ह २,
१, भग) । २ न आसन-विशेष (इक) ।

ठाणु देखो खाणु । °खड न [°खण्ड] १
स्थाणु का अवयव । २ वि स्थाणु की तरह
ऊँचा और स्थिर रहा हुआ, स्तम्भित शरीर-
वाला (आया १, १—पत्र ६६) ।

ठाम } (अप) । देखो ठाण (पिग, सण) ।
ठाय }

ठाय पु [स्थाय] स्थान, आश्रय (सुख २,
१७) ।

ठाव सक [स्थापय्] स्थापन करना, रखना ।
ठावड, ठावेइ (पि ५५३, कप्प, महा) । वक्क
ठावत, ठावित (चउ २०, सुपा ८८) । सक
ठावइत्ता, ठावेत्ता (कस, महा) क्क. ठापयव्व
(सुपा ५४५) ।

ठावण न [स्थापन] स्थापन, धारण (पचा
१३) ।

ठावणया } देखो ठवणा (उप ६८६ टी, ठा
ठावणा } १, वृह ५) ।

ठावय [स्थापक] स्थापन करनेवाला (आया
१, १८, सुपा २३४) ।

ठावर वि [स्थावर] रहनेवाला, स्थायी (अच्छु
१३) ।

ठाविअ वि [स्थापित] स्थापित, रखा हुआ
(ठा ३, १, आ १२, महा) ।

ठाविच्चु वि [स्थापयित्] ऊपर देखो (ठा
३, १) ।

ठिअअ न [दे] ऊर्ध्व, ऊँचा (दे ४, ६) ।

ठिइ स्त्री [स्थिति] १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा,
नियम, 'जर्याठुई एसा' (ठा ४, १, उप ७२८
टी) । २ स्थान, अवस्थान (सम २) । ३
अवस्था, दशा (जो ४८) । ४ आयु, उम्र,
काल-मर्यादा (भग १४, ५, नव ३१, पण्ह
४, औप) । °क्खय पु [°क्षय] आयु का
क्षय, मरण (विपा २, १) । °पडिया देखो
°वडिया (कप्प) । °वध पु [°बन्ध]
कर्म-बन्ध की काल-मर्यादा (कम्म ४, ८२) ।
°वडिया स्त्री [°पतिता] पुत्र-जन्म-सम्बन्धी
उत्सव-विशेष (आया १, १) ।

ठिक्क न [दे] पुरुष-चिह्न (दे ४, ५) ।

ठिक्करिआ स्त्री [दे] ठिकरी, घडा का टुकडा
(आ १४) ।

ठिय वि [स्थित] १ अवस्थित (ठा २, ४) ।
२ व्यवस्थित, नियमित (सूत्र १, ६) । ३
खडा (भग ६, ३३) । ४ निपणण, वैठा हुआ
(निच्चू १, प्राप्र, कुमा) ।

ठिर देखो थिर (अच्छु १, गा १३१ अ) ।

ठिविअ न [दे] १ ऊर्ध्व, ऊँचा । २ निकट,
समीप । ३ हिक्का, हिचकी (दे ४, ६) ।

ठिन्न सक [वि + युट्] मोडना । सक
ठिन्विऊण (सुपा १६) ।

ठीण वि [स्त्यान] १ जमा हुआ (धृत आदि)
(कुमा) । २ ध्वनि-कारक, आवाज करने-
वाला । ३ न जमाव । ४ आलस्य । ५ प्रति-
ध्वनि (हे १, ७४, २, ३३) ।

ठुठ पुन [दे] ठूँठा, ठूँठ, स्थाणु (ज १) ।

ठुक्क सक [हा] त्याग करना । ठुक्कइ (प्राक्क
६३) ।

ठेर पुळी [स्थविर] वृद्ध, बूढा (गा ८८३
अ, पि १६६) ।

°पउरजुवाणो गामो, महमासो
जोअणं पई ठेरो ।

जुएणसुरा साहीणा, असई
मा होउ किं मरउ ?

(गा १६७) । स्त्री. °री (गा ६५४ अ) ।

ठोड पु [दे] १ जोतिषी, दैवज्ञ । २ पुरोहित
(सुपा ५५२) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवम्मि ठयाराइसद्सकलणो

एण्णवीसइमो तरगो समत्तो ॥

ड

ड पु [ड] मूढ-स्थानीय व्यञ्जन वरुण विशेष
(प्राप्त, प्राप) ।

डओयर न [दकोदर] पेट का रोग-विशेष,
जलोदर (निच्चू १) ।

डक पु [दे] १ डक, वृश्चिक (विच्चू) आदि का
काँटा (पण्ह १, १) । २ दश-स्थान, जहाँ पर

वृश्चिक आदि डसा हो, 'जह सव्वसरीरगर्भं
विस निरमित्तु डकमारिण्ति' (सुपा ६०६) ।

डकिय देखो डक = वट (वै ८६) ।

डगा स्त्री [दे] डॉग, लाठी, यष्टि (सुपा २३८,
३८८, ५४६) ।

डड देखो दड (हे १, १२७, प्राप्र) ।

डड न [दे] वज्र के सीए हुए टुकडे (दे
४, ७) ।

डडगा स्त्री [दण्डका] दक्षिण देश का एक
प्रसिद्ध अरण्य—जंगल (सुख) ।

डंडय पु [दे] रथ्या, महल्ला (दे ४, ८) ।

डडारण न [दण्डारण्य] दक्षिण का एक

गिअः सक [नि + वस्] पहनना। गिअ-
वः (हा)। सक गियसिन्ता (जीव ३,
प ७)। प्रयो गियसावेइ (पि ७४)।

गिअराः [दे. निवसन] वर, कपडा
(दे ६, ३८, गा ३५१, पात्र, गडड, परह
१ ३, सुपा १५१, हेका ३१)।

गअसाण खी [निवसनी] वर, कपडा
(पव ६२)।

गिअक सक [दृश्] देखना। गिअकइ
(गात्र)।

गिअवः वि [दे] वरुल, गोलाकार पदार्थ
(दे ४, २६, पात्र)।

गिअम गी [निजक] आत्मीय, स्वकीय (उवा)।

गिअमक [दृश्] देखना। गिअमकइ
(१८१)। वरु गिअच्छत, गिअ-

मण (गा २३८, गडड, गा ५००)।

गिअच्छिऊण, गिअच्छिअ (सुर
१२७, कुमा)। कृ गिअच्छियन्व
(इ)।

गिअक [नि + यम्] १ नियम
न नियन्त्रण करना। २ अवश्य प्राप्त
करना जोडना। सक गिअच्छइत्ता
(१, १, १, २)।

गिअक [नि + गम्] १ सगत होना,
लगत होना। २ सक अवश्य प्राप्त करना।
गिअकइ (सूत्र १, १, १, १०, १, १, २,
१७, १, १, २, १८)।

गिअक [दृश्] देखा हुआ (पात्र)।

गिअक [नि + वृत्] निवृत्त होना,
छे हटना, रुकना। गिअकइ (सण)। वरु
गयदृसाण (भाचा)।

गिअक [निर + वृत्] बचाना,
रचना, निर्माण करना (श्रौप)।

गिअक [नि + अर्द्] अनुसरण करना
(श्रौप)।

गिअक [निवर्त्त] व्यावर्त्तन, निवृत्ति, 'गिअ-
इगापीण' (भाचा)।

गिअक [निवृत्त] व्यावृत्त, पीछे हटा हुआ
धर्म २)।

गिअक [निवर्त्तित्] निवृत्त होनेवाला
धर्म ७६४)।

गिअक खी [निवृत्ति] १ निवर्त्तन, पीछे
हटना (भाचू १)। २ अच्यवसाय-विशेष
(सम २६)। ३ मोह-रहित अवस्था (सूत्र
१, ११)। ४ वायर न [वादर] १ गुण-
स्थानक-विशेष (सम २६)। २ पु गुण-
स्थानक-विशेष मे वर्त्तमान जीव (भाव ४)।

गिअकिय वि [निवर्त्तित] व्यावर्त्तित, पीछे
हटाया हुआ (श्रौप)।

गिअकिय वि [निवर्त्तित] रचित, निर्मित,
बनाया हुआ (श्रौप)।

गिअकिय वि [निवर्त्तित] अनुगत, अनुसृत
(श्रौप)।

गिअकिय वि [निवर्त्तित] अनुगत, अनुसृत
(श्रौप)।

गिअक न [निकट] १ निकट, समीप, नज-
दीक, पास (गा ४०२, पात्र, सुपा ३५२)।

२ वि पास का, समीप का (पात्र)।

गिअकिय वि [निकृतिन्] मायावी, कपटी
(सस ६, २३)।

गिअकिय खी [निवृत्ति] की हुई ठगाई को
ढकना—छिपाना (राय ११४)।

गिअकिय खी [दे निकृति] माया, कपट
(दे ४, २६, परह १, २, सम ५१, भाग
१२, ५, सूत्र २, २, याया १, १८,
भाव ५)।

गिअकिय वि [निगदित] नियन्त्रित, जकडा
हुआ (गा ५५६, जप ५ ५२, सुपा ६३)।

गिअकिय वि [निकटिक] समीप-वर्ती,
पार्श्व मे स्थित (कप्यु)।

गिअकिय वि [निकृतिमत्] कपटी, मायावी
(ठा ४, ४, श्रौप, सम ८, ६)।

गिअकिय सक [नि + कृष्] खीचना।
सक नियडिऊण (सम्मत्त २२७)।

गिअकिय वि [नम्र] नगा, वर-रहित (पव
२७१)।

गिअकिय वि [निकृत्त] काटा हुआ, छिन
(भाग ६, ३३)।

गिअकिय वि [नित्य] शाश्वत, अविनश्य, 'सुख
जमनियत्' (तदु ३३, सूत्र १, १,
१, १६)।

गिअकिय देखो गिअकिय = नि + वृत् । गिअकिय
(महा, पि २८६)। वरु गिअकिय, गिअकिय-
माण (गा ७६, ५३७, से ५, ६७, नाट)।

प्रयो गिअकियवेहि (पि २८६)।

गिअकिय देखो गिअकिय = निवृत्त (पव २२,
६२, गा ६५८, सुपा ३१७)।

गिअकिय न [निवर्त्तन] १ भूमि का एक
नाप (उवा)। २ निवृत्ति, व्यावर्त्तन (भाव ५)।

गिअकिय गिअकिय वि [निवर्त्तनिक] निवर्त्तन
परिमाणवाला, (भाग ३, १)।

गिअकिय देखो गिअकिय (वत्त ३१)।

गिअकिय वि [दे] १ परिहित, पहना हुआ
(दे ४, ३३, भाव, भवि)। २ परिष्कार,
जिसको वरु भादि पहनाया गया हा वरु

'गिअकिय तो गिअकिय' (विसे २६०७)।

गिअकिय सक [नि + गद्] कहना, बोलना।
गिअकिय (शी) (नाट—चैत ४५)। वरु
गिअकिय (नाट)।

गिअकिय देखो गिअकिय = न्यदित (राय)।

गिअकिय न [दे] परिधान, पहनने का वरु
(पड)।

गिअकिय सक [नि + यम्य] निर्वाक
करना, नियम मे रखना। संकृ. गिअकिय
(पि ५८६)।

गिअकिय सक [नि + यम्य] १ रोचना।
२ वचन से करना। ३ शरीर से करना।
निअमे (भाचा २, १३, १)।

गिअकिय पु [नियम] १ निश्चय (जी १५)।
२ ली हुई प्रतिज्ञा, व्रत, 'परिवर्त्तित्'।

गिअकिय गिअकियसमती तुमे मरुक्' (ज ७१८
टी)। ३ प्रायोपवेशन, सकल्प-पूर्वक अरण्य
मरण के लिए उद्यम (से ५, २)। 'सा म

[सात्] नियम से (श्रौप)। 'सो म
[शास्] निश्चय से (शा १४)।

गिअकिय न [नियमन] नियन्त्रण, सयमन
(विसे १२५८)।

गिअकिय गिअकिय वि [नियमित] नियम में रखा
हुआ, नियन्त्रित (से ४, ३७)।

गिअकिय न [दे] १ रत्न, मेषुन। २ शक्य,
शक्या। ३ वट, घडा, बलस (दे ४, ४८)।

४ वि शाश्वत, नित्य (दे ४, ४८, पात्र,
सूत्र १, ८, राय)।

गिअकिय वि [निजक] निजका, स्वकीय,
आत्मीय, अपना (पात्र)।

गिअकिय वि [नियत] नियम-बद्ध, नियमाबुद्ध
(उवा)।

ढढसिअ—ढोअ

पाइअसहमहणवो

ढढसिअ पु [दे] ? ग्राम का यक्ष । २ गौं का वृक्ष (दे ४, १५) ।
 ढढुल्ल देखो ढढल्ल । ढढुल्लइ (सण) ।
 ढढोल सक [गवेपय] खोजना, अन्वेषण करना । ढढोलइ (हे ४, १८) । सक ढढोलिअ (कुमा) ।
 ढढोल्ल देखो ढढुल्ल । मक ढढोल्लिवि (सण) ।
 ढस अक [वि + घृत्] घसना, घसकर रहना, गिर पडना । ढसइ (हे ४, ११८) ।
 वक, ढसमाण (कुमा) ।
 ढसय न [दे] अयश, अपकीर्ति (दे ४, १४) ।
 ढकक सक [छादय] ? ढकना, आच्छादन करना, बन्द करना । ढककइ (हे ४, २१) ।
 भवि ढक्किस्स (गा ३१४) । कर्म 'ढक्कि-ज्जस कूचाई' (सुर १३, १०२) । सक 'तय ढक्किअ दार', ढक्किअण, ढक्के-अण (सुपा ६४०, महा. पि २२१) । क ढक्केयअव (स २) ।
 ढकक पु [ढकक] ? देश-विशेष । २ देश-विशेष मे रहनेवाली एक जाति (भवि) । ३ भाट की एक जाति (उप पृ ११२) ।
 ढककय न [दे] तिलक (दे ४, १४) ।
 ढककरी वि [दे] अद्भुत, आश्चर्य जनक (हे ४, ४२२) ।
 ढककयत्थुल्ल देखो ढककत्थुल्ल (पव ४) ।
 ढकका खी [ढकका] वाद्य-विशेष, डका, नगाडा, डमरू (गा ५२६, कुमा, सुपा २४२) ।
 ढक्किअ वि [छादित] बन्द किया हुआ, आच्छादित (स ४६६, कुमा) ।
 ढक्किअ न [दे] बैल की गर्जना (अणु २१२, सुव ६, १) ।
 ढगढगगा खी [दे] 'ढग-ढग' आवाज, पानी वगैरह पीने की आवाज, 'सोशिय ढगढगगाए घोठयतो' (स २५७) ।
 ढजजत देखो ढजजत (पि २१२, २१६) ।
 ढड्ड पु [दे] मेरी, वाद्य-विशेष (दे ४, १३) ।
 ढड्डर पु [दे] राहु (सुज्ज २०) ।
 ढट्टर पु [दे] ? वडो आवाज, महान् ध्वनि (श्रोय १५६) । २ न गुरु-बन्दन का एक

दोष, बडे स्वर से प्रणाम करना (धुमा २५) ।
 ३ वि. वृद्ध, वृद्धा: 'ढड्डर-सड्डरण मग्गेण' (सार्ध ३८) ।
 ढणिय वि [ध्वनिन] शब्दित, ध्वनित (सुर १३, ८४) ।
 ढमर न [दे] ? पिठर, स्थाली या घाली (दे ४, १७, पात्र) । २ गरम पानी, उष्ण जल (दे ४, १७) ।
 ढयर पु [दे] ? पिशाच (दे ४, १६, पात्र) । २ ईर्ष्या, द्वेष (दे ४, १६) ।
 ढल अक [दे] टपकना, नीचे पडना, गिरना । २ झुकना । वक ढलत (कुमा), 'ढलतसेयचामरूपीलो' (उप ६८६ टी) ।
 ढलिय वि [दे] झुका हुआ (उप पृ ११८) ।
 ढाल सक [दे] ? ढालना, नीचे गिराना । २ झुकाना, चामर वगैरह का वीजना । ढालए (सुपा ४७) ।
 ढलहलय वि [दे] मूड, कोमल, मुलायम (वज्जा ११४) ।
 ढलिय वि [दे] गिरा हुआ, खलित (वज्जा १००) ।
 ढालिअ वि [दे] नीचे गिराया हुआ, 'सीसाओ ढालिओ सूरौ' (सुर ३, २२८) ।
 ढाव पु [दे] आग्रह, निर्वन्ध (कुमा) ।
 ढिक पु [ढिङ्क] पक्षि-विशेष (पणह १, १—पत्र ८) ।
 ढिकण } पु [दे] सुध्र जन्तु-विशेष, गौ
 ढिकुण } आदि को लगनेवाला कीट-विशेष (राज, जी १८) ।
 ढिङ्कलीआ खी [दे] पात्र-विशेष (सिरि ४२६) ।
 ढिग देखो ढिङ्क (राज) ।
 ढिडय वि [दे] जल मे पतित (दे ४, १५) ।
 ढिक्क अक [गर्ज] साँड का गरजना । ढिक्कइ (हे ४, ६६) । वक ढिक्कमाण (कुमा) ।
 ढिक्कय न [दे] नित्य, हमेशा, सदा (दे ४, १५) ।
 ढिक्कय न [गर्जन] साँड की गर्जना (महा) ।
 ढिडिडस न [ढिडिडस] देव-विमान-विशेष (इक) ।

ढिल्ल वि [दे] ढीला, शिथिल (पि १५०) ।
 ढिल्ली खी [ढिल्ली] भारतवर्ष की प्राचीन और अद्यतन राज-धानी, दिल्ली शहर (पिंग) ।
 'नाह पुं [नाथ] दिल्ली का राजा (कुमा) ।
 ढुडुल्ल सक [अम] धूमना, फिरना, चलना । ढुडुल्लइ (हे ४, १६१) । ढुडुल्लन्ति (कुमा) ।
 ढुडुल्ल सक [गवेपय] ढूँढना, खोजना, अन्वेषण करना । ढुडुल्लइ (हे ४, १८) ।
 ढुडुल्लग न [गवेपग] खोज, अन्वेषण (कुमा) ।
 ढुडुल्लिअ वि [गवेपित] अन्वेषित, ढूँढा हुआ (पात्र) ।
 ढुक्क सक [ढौक्] ? भेंट करना, अर्पण करना । २ उपस्थित करना । ३ अक लगना, प्रवृत्ति करना । ४ मिलना । वक. ढुक्कन (पिंग) । कवक ढुक्कत (उप ६८६ टी, पिंग) ।
 ढुक्क सक [प्र + विश] ढुकना, घुसना, प्रवेश करना । ढुक्कइ (प्राक ७४) ।
 ढुक्क वि [दे ढौकिन] ? उपस्थित, हाजिर (स २५१) । २ मिलित (पिंग) । ३ प्रवृत्त, 'चिचित्त ढुक्को' (श्रा २७, सण, भवि) ।
 ढुक्कल्लुक्क न [दे] चमडे से मदा हुआ वाद्य विशेष (सिरि ४२६) ।
 ढुक्कअ वि [ढौकित] ऊपर देखो (पिंग) ।
 ढुम } सक [अम] अमण करना, धूमना ।
 ढुस } ढुमइ, ढुसइ (हे ४, १६१, कुमा) ।
 ढुरुडुल्ल देखो ढुडुल्ल = अम । वक ढुरुडुल्लत (वज्जा १२८) ।
 ढेरु पु [ढेरु] एक जल पक्षी, पक्षि विशेष (वज्जा ३४) ।
 ढेना खी [दे] ? हर्ष, खुशी । २ ढेकुना, ढेकली, कूप-तुला (दे ४, १७) ।
 ढेकिय देखो ढेकिअय (राज) ।
 ढेनी खी [दे] बलाका, वक-पक्षि (दे ४, १५) ।
 ढेकुण पु [दे] मत्कुण, खटमल (दे ४, १४) ।
 ढेडिअ वि [दे] धूपित, धूप दिया हुआ (दे ४, १६) ।
 ढेणियाळग } पु खी [ढेणियाळक] पक्षि-
 ढेणियाळय } विशेष (पणह १, १) । खी
 'णिया (अनु ४) ।
 ढेल वि [दे] निबंन, दरिद्र (हे ४, १६) ।
 ढोअ देखो ढुक्क = ढौक । ढोएज्जह (महा) ।

गिउत्त वि [निवृत्त] विरत, उपरत, विमुक्त, विरक्त (प्राक् ङ)।

गिउत्त वि [निर्वृत्त] निष्पन्न, सिद्ध (उत्तर १०४)।

गिउत्तव्य देखो गिउज्ज = नि + युज्।

गिउत्ति स्त्री [निवृत्ति] विराम (प्राक् ङ)।

गिउद्ध न [नियुद्ध] बाहु युद्ध, कुस्ती (उप २६२)।

गिउर पु [निकुर] वृक्ष-विशेष (शाया १, ६-पत्र १६०)।

गिउर न [नूपुर] स्त्री के पांव का एक आभरण, पैजनी, पायल (हे १, १२३, कुमा)।

गिउर वि [दे] १ छिन्न, काटा हुआ। २ जीर्ण, पुराना (पड)।

गिउरब न [निकुरम्ब] समूह, जत्या (पाम, सुर ३, ६१, गा ४६५, सुपा ४५४)।

गिउरब न [निकुरम्ब] समूह, जत्या (स ४३७, गा ४६५ अ, पि १७७)।

गिउल पुं [दे] गांठ, गठरी, 'एवं बहु भणिक्रण समप्यो दविणानिउत्ति' (महा)।

गिउळ वि [निगूळ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ (अच्छ ४५)।

गिएअ वि [नियत] नियम-युक्त, 'अणिए-अचारी' (सूत्र १, ६, ६)।

गिएळ देखो गिअळ = निज (आवम)।

गिओअ सक [नि + योजय] किसी कार्य में लगाना। गिओएदि (शौ) (नाट—विक्र ५)।

गिओअ देखो गिओग (से ङ, २६, अमि २७, सण, से ३४८)। १० आज्ञा, आदेश (स २१४)।

गिओइअ वि [नियोजित] नियुक्त किया हुआ, किसी कार्य में लगाया हुआ (स ४४२, अमि ६६)।

गिओइअ वि [नैयोगिक] नियोग सम्बन्धी (प्राक् ङ)।

गिओग पु [नियोग] मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, १, १६, ५)।

गिओग पु [नियोग] १ नियम, आवश्यक कर्तव्य (विसे-१८७६, पचव ४)। २ सम्बन्ध, नियोजन (बृह १)। ३ अनुयोग, सूत्र की

व्याख्या (विसे) ४ व्यापार, कार्य (वृ २)।

५ अधिकार-भरण (महा)। ६ राजा, नृप, आज्ञा-विधाता (जीत)। ७ गाँव, ग्राम, ङ क्षेत्र, भूमि (बृह १)। ८ समय, त्याग (सूत्र १, १६)। देखो गिओअ। १० पुरन [पुर]

१ राजधानी। २ देश, राष्ट्र। ३ राज्य (जीत)।

गिओगि वि [निओगिन्] नियोग विशिष्ट, नियुक्त, आज्ञाप्राप्त, अधिकारी (सुपा ३७१)।

गिओजिय देखो गिओइअ (आवम)।

गित } देखो गी = गम्।
गितूण }

गिंद सक [निन्द] निन्दा करना, बुराई करना, जुगुप्सा करना। गिंदामि (पडि)। वक्क गिंदत (आ ३६)। कवक्क गिंदिज्जत (सुपा ३६३)।

सक्क गिदिता, गिदिअ (आचा २, ३, १, १, आ ४०)। हेक्क गिदिउ, गिदिताए (महा, ठा २, १)। क्क गिदियव्व, गिदि-गिज्ज (पएह २, १, उप १०३१ टी, शाया १, ३)।

गिंद वि [निन्द्य] निन्दा योग्य, निन्दनीय (आच्छ १)।

गिंद (अप) स्त्री [निन्द्रा] नींद, निद्रा (भवि)।

गिंदण न [निन्दन] निन्दा, घृणा; जुगुप्सा (उप ४४६, ७२८ टी)।

गिंदणया देखो गिंदणा (उत्तर २६, १)।

गिंदणा स्त्री [निन्दना] निन्दा, जुगुप्सा (श्रौप, श्रोष ७६१, पएह २, १)।

गिंदय वि [निन्दक] निन्दा करनेवाला (पउम ६०, २१)।

गिदा स्त्री [निन्दा] घृणा, जुगुप्सा (आव ४)।

गिदिअ वि [निन्दित] जिसकी निन्दा की गई हो वह, बुरा (गा २६७, प्रासू १५८)।

गिदिणी स्त्री [दे] कुत्सित वृणो का उन्मूलन (दे ४, ३५)।

गिदि स्त्री [निन्दु] मृत-वत्सा स्त्री, जिसके बच्चे जीवित न रहते हो ऐसी स्त्री (अत ७, आ १६)।

गिदि पुं [निम्ब] नीम का पेड़ (हे १, २३०, प्रासू २६)।

गिदोलिया स्त्री [निम्बगुलिका] नीम का फल (शाया १, १६)।

गिऊर पु [निकुर] समूह, जत्या, राशि, ङ, (कप्प)।

गिऊरण न [निकरण] १ निश्चय, निर्णय। २ निकार, दुःख-उत्पादन (आचा)।

गिऊरिय वि [निकरित] सारोक्त, सर्वप्रसोधित (श्रौप)।

गिऊस देखो गिहस (अणु २१२)।

गिऊइय वि [निकाचित] १ व्यवस्थित, नियमित (रादि)। २ अत्यन्त निविड रूप से हुआ (कर्म) (उव, सुपा ५७६)। न कर्म का निविड रूप से बन्धन (ठा ४, २)।

गिऊम सक [नि + कामय] अभिप्राय करना। गिकाएमणा (सूत्र १, १०, ११)। वक्क गिऊमयत (सूत्र १, १०, ११)।

गिऊम न [निकाम] हमेशा परिमण स ज्वादा खाया जाता भोजन (पिड ६५५)।

गिऊम न [निकाम] १ निश्चय, निर्णय। २ अत्यन्त, अतिशय (सूत्र १, १०)।

गिकाएममीण वि [निकाममीण] अत्यन्त प्रार्थी (सूत्र १, १०, ङ)।

गिकाय सक [नि + काचय] १ निमन करना, निमन्त्रण करना। २ निविड रूप बाँधना। ३ निमन्त्रण देना। गिकाइति (भग)। भूका गिकाइयु (अग, सूत्र २, १)। अवि गिकाइस्सति (भग)। सक्क गिकाय (आचा)।

गिकाय पु [निकाय] १ समूह, जत्या, ग्रह वर्ग, राशि (श्रोष ४०७, विसे ६००, २२८)। २ मोक्ष, मुक्ति (आचा)। ३ आवश्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान विद्वय (अणु)। ४ काय पु [काय] जीव राशि, छत्रो प्रकार के जीवो का समूह (दम ५)।

गिकाय पु [निकाच] निमन्त्रण, न्यौत्रा (सम २१)।

गिकाय देखो गिऊइय, जेण खमात्तहिण कएणा कम्माएवि निकामाए (सिदि १२६७)।

गिकायण न [निकाचन] निमन्त्रण (पिड ४७५)।

गिकायणा स्त्री [निकाचना] १ नार-विशेष, जिससे कर्मों का निविड बन्ध हुआ है (विसे २५१५ टी, भग)। २ निविड बन्धन। ३ दापन, दिलाता (राज)।

पांगअ वि [दे] वृद्ध, रीका हुआ (षड्) ।
 पागर पु [दे] लगर, जहाज को जल-स्थान मे धामने के लिए पानी में जो रस्सी आदि डाली जाती है वह (उप ७२८ टी, सुरे १३, १६३, स २०२) ।
 पांगर } न [लाङ्गल] हल, जिससे खेत जोता
 पागल } और बोया जाता है (पउम ७२, ७३, परह १, ४, पात्र) ।
 पागल पुन [दे] चञ्चु, चाँच, चोच, 'जडाउणो व्हो । नहणगलेसु पहरद, दसाएण विउल-वच्छयले' (पउम ४४, ४०) ।
 पागले पुन [लाङ्गले] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३) ।
 पागलि पु [लाङ्गलिन्] बलभद्र-हली (कुमा) ।
 पागलिय पु [लाङ्गलिक] हल के आकारवाले शक विशेष को धारण करने वाला सुभट (कप्प, औप) ।
 पागूल न [लाङ्गूल] पुच्छ, पूँछ (ठा ४, २, हे १, २५६) ।
 पागूलि वि [लाङ्गूलिन्] १ लम्बी पूँछवाला २ पु वानर, बन्दर (कुमा) ।
 पागूलि देखो पागोलि (पव २६२) ।
 पागोलि देखो पागूल (राया १, ३, पि १२७) ।
 पागोलि } पु [लाङ्गूलिन्, °क] १ अन्त-
 पागोलिय } द्वीप-विशेष । २ उसका निवासी मनुष्य (पि १२७, ठा ४, २) ।
 पातग न [दे] बख, कपडा (कस, आव ५) ।
 पाद अक [नन्द] १ क्षुश होना, आनन्दित होना । २ समृद्ध होना । एदद, एदए (षड्) ।
 कवक पादिज्जमाण (औप) । क पादि-अठ्व, पादेअठ्व (षड्) ।
 पाद पु [नन्द] १ स्वनाम-प्रसिद्ध पाटलिपुत्रे नगर का एक राजा (मुद्रा १६८, एदि) । २ भरत क्षेत्र के भावी प्रथम वासुदेव (सम १५४) । ३ भरत-क्षेत्र मे होने वाले नववें तीर्थकर का पूर्व-भवीय नाम (सम १५४) । ४ स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पउम २०, २०) । ५ स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्ठी (सुपा ६३८) । ६ न देव-विमान विशेष (सम २६) । ७ लोहे को एक प्रकार के वृत्त आसन (एणियां १, १—पत्र ४३ टी) । ८ वि समृद्ध होने

वाला (औप) । °कत न [°कान्त] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °कूड न [°कूट] एक देव-विमान (सम २६) । °उभय न [°ध्वज] एक देव-विमान (सम २६) । °उपभ न [°प्रभ] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °मई स्त्री [°मती] एक अन्तकृत साष्वी (अन्त २५, राज) । °मित्त पु [°मित्र] भरतक्षेत्र मे होने वाला द्वितीय वासुदेव (सम १५४) । °लेस न [°लेश्य] एक देव-विमान (सम २६) । °वई स्त्री [°वनी] १ सातवें वासुदेव की माता (पउम २०, १८६) । २ रतिकर पर्वत पर स्थित एक देव नगरी (दीव) । °वण न [°वर्ण] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °सिंग न [°शृङ्ग] एक देवविमान (सम २६) । °सिद्ध न [°सृष्ट] देव-विमान-विशेष (सम २६) । °सिरी स्त्री [°श्री] स्वनाम-ख्यात एक श्रेष्ठि-कन्या (ती ३७) । °सेणिया स्त्री [°सेनिका] एक जैन साष्वी (अत २५) ।
 पाद पु [नन्द] गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पालक गोपाल (वजा १२२) ।
 पाद पुष्ठी [नन्दा] पत्नी की पहली (प्रतिपदा), पष्ठी और एकादशी तिथि (सुज १०, १५) ।
 पाद न [दे] १ ऊख पीलने या पेरने का काण्ड । २ कुण्डा, पात्र-विशेष (दे ४, ४५) ।
 पादग पु [नन्दक] वासुदेव का खड्ग (परह १, ४) ।
 पादण पुं [नन्दन] १ पुत्र, लडका (गा ६०२) । २ राम का एक स्वनाम-ख्यात सुभट (पउम ६७, १०) । ३ स्वनाम-ख्यात एक बलदेव (सम ६३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी सातवाँ वासुदेव (सम १५४) । ५ स्वनाम-प्रसिद्ध एक श्रेष्ठी (उप ५५०) । ६ श्रेष्ठिक राजा का एक पुत्र (निर १, २) । ७ मेरु पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध वन (ठा २, ३, इक) । ८ एक चैत्य (भग ३, १) । ९ वृद्धि (परह १, ४) । १० नगर विशेष (उप ७२८ टी) । °कर वि [°कर] वृद्धि-कारक । °कूड न [°कूट] नन्दन वन का शिखर (राज) । °भद्रे पु [°भद्र] एक जैन मुनि (कप्प) । °वण न [°वन] १ स्वनाम-ख्यात एक वन जो मेरु

पर्वत पर स्थित है (सम ६२) । २ उत्रान्त-विशेष (निर १, ५) ।
 पादण पु [दे] श्रुत्य, नौकर, दास (दे ४, १६) ।
 पादण पुन [नन्दन] एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । २ न सतोप (एदि ४५) ।
 पादणा स्त्री [नन्दना] लडकी, पुत्री (पात्र) ।
 पादणी स्त्री [नन्दनी] पुत्री, लडकी (सिरि १४०) ।
 पादतणय पु [नन्दतणय] श्रीकृष्ण (प्राह २७) ।
 पादमागग पु [नन्दमानक] पक्षी की एक जाति (परह १, १) ।
 पादयावत्त } पुन [नन्दावत्त] १ एक देव-
 पादावत्त } विमान (देवेन्द्र १३३) । २ पु चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (उत्त ३६, १४८) । ३ न लगातार एकहीस दिनों का उपवास (सवोध ५८) ।
 पादा स्त्री [नन्दा] १ भगवान् ऋषभदेव की एक पत्नी (पउम ३, ११६) । २ राजा श्रेष्ठिक की एक पत्नी और अभयकुमार की माता (राया १, १) । ३ भगवान् श्री शीतलनाथ की माता (सम १५१) । ४ भगवान् महावीर के अचलभ्रातृ नामक गणधर की माता (आवम) । ५ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । ६ पश्चिम रुचक-पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) । ७ ईशानेन्द्र की एक अग्रमहिषी की राजधानी (ठा ४, २) । ८ स्वनाम-ख्यात एक पुष्करिणी (ठा ४, ३) । ९ ज्योतिष शास्त्र मे प्रसिद्ध तिथि विशेष—प्रतिपदा, पष्ठी और एकादशी तिथि (चद १०) ।
 पादा स्त्री [दे] गो, गैया (दे ४, १८) ।
 पादावत्त पु [नन्दावत्त] १ एक प्रकार का स्वस्तिक (सुपा ५२) । २ क्षुद्र जन्तु की एक जाति (जीव १) । ३ न देव-विमान-विशेष (सम २६) ।
 पादि पुष्ठी [नन्दि] १ वारह प्रकार के वाद्यो का एक ही साथ आवाज (परह २, ५, एदि) । २ प्रमोद, हर्ष (ठा ५, २) । ३ मतिमान आदि पाँचों ज्ञान (एदि) । ४ वाञ्छित अर्थ की प्राप्ति । ५ मगल (वृह १, अजि ३८) । ६ समृद्धि (अणु) । ७ जैन

णित्त वि [निवृत्त] विरत, उपरत, विमुख, विरक्त (प्राक् ङ)।
 णित्त वि [निर्वृत्त] निष्पन्न, सिद्ध (उत्तर १०४)।
 णित्तव्व देखो णित्तज = नि + युज्।
 णित्ति स्त्री [निवृत्ति] विराम (प्राक् ङ)।
 णित्त न [नियुद्ध] बाहु युद्ध, कुस्ती (उप २६२)।
 णित्त पु [निकुर] वृक्ष-विशेष (याया १, ६-पत्र १६०)।
 णित्त न [नूपुर] स्त्री के पाँव का एक आभरण, पँजनी, पायल (हे १, १२३, कुमा)।
 णित्त वि [दे] १ छिन्न, काटा हुआ। २ जीर्ण, पुराना (पड्)।
 णित्त न [निकुरम्ब] समूह, जलिया (पाद्य, सुर ३, ६१, गा ४६५, सुपा ४५४)।
 णित्त न [निकुरम्ब] समूह, जलिया (स ४३७, गा ४६५ प्र, पि १७७)।
 णित्त पु [दे] गाँठ, गठरी, 'एव बहु भणिएण समण्णो दविएणित्तोत्ति' (महा)।
 णित्त वि [निगूढ] गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ (अच्छ ४५)।
 णिएअ वि [नियत्त] नियम-युक्त, 'अणिएअचारी' (सूत्र १, ६, ६)।
 णिएअ देखो णिएअ = निज (भावम)।
 णिओअ सक [नि + योजय्] किसी कार्य में लगाना। णिओएदि (शौ) (नाट—विक्र ५)।
 णिओअ देखो णिओग (स ८, २६, अमि २७, सण्, से ३४८)। १० आज्ञा, आदेश (स २१४)।
 णिओइअ वि [नियोजित्त] नियुक्त किया हुआ, किसी कार्य में लगाया हुआ (स ४४२, अमि ६६)।
 णिओइअ वि [नैयोगिक्क] नियोग-सम्बन्धी (प्राक् ङ)।
 णिओग पु [नियोग] मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, १, १६, ५)।
 णिओग पु [नियोग] १ नियम, आवश्यक कर्तव्य (विसे १८७६, पचव ४)। २ सम्बन्ध, नियोजन (बृह १)। ३ अनुयोग, सूत्र की

व्याख्या (विसे) ४ व्यापार, कार्य (वव २)।
 ५ अधिकार-प्रेरण (महा)। ६ राजा, वृष, आज्ञा-विधाता (जीत)। ७ गोंव, ग्राम, ८ क्षेत्र, भूमि (बृह १)। ९ समय, त्याग (सूत्र १, १६)। देखो णिओअ। 'पुर न [पुर] १ राजधानी। २ देश, राष्ट्र। ३ राज्य (जीत)।
 णिओगि वि [नियोगिन्] नियोग-विशिष्ट, नियुक्त, आज्ञाप्राप्त, अधिकारी (सुपा ३७१)।
 णिओजिय देखो णिओइअ (भावम)।
 णित्त } देखो णी = गम्।
 णित्तूण }
 णिद सक [निन्द] निन्दा करना, बुराई करना, जुगुप्सा करना। णिदामि (पडि)। वक्क णिदत्त (आ ३६)। कक्क णिदिज्जंत (सुपा ३६३)। सक्क णिदिज्जा, णिदिअ (आचा २, ३, १, १, आ ४०)। हेक्क णिदिअ, णिदिज्जा (महा, ठा २, १)। क्क णिदिअव्व, णिदि-णित्त (पणह २, १, उप १०३१ टी, याया १, ३)।
 णिद वि [निन्द्य] निन्दा योग्य, निन्दनीय (आच १)।
 णिद (अप) स्त्री [निद्रा] नीद, निद्रा (भवि)।
 णिदण न [निन्दन] निन्दा, घृणा, जुगुप्सा (उप ४४६, ७२८ टी)।
 णिदणया देखो णिदणा (उत्तर २६, १)।
 णिदणा स्त्री [निन्दना] निन्दा, जुगुप्सा (अप, अष ७६१, पणह २, १)।
 णिदय वि [निन्दक] निन्दा करनेवाला (पउम ६०, २१)।
 णिदा स्त्री [निन्दा] घृणा, जुगुप्सा (भाव ४)।
 णिदिअ वि [निन्दित्त] जिसकी निन्दा की गई हो बह, बुरा (गा २६७, प्रासू १५८)।
 णिदिणी स्त्री [दि] कुत्सित वृणो का उन्मूलन (दे ४, ३५)।
 णिदु स्त्री [निन्दु] मृत-वत्सा स्त्री, जिसके बच्चे जीवित न रहते हो ऐसी स्त्री (अंत ७, आ १६)।
 णिद पुं [निन्द] नीम का पेड़ (हे १, २३०, प्रासू २६)।
 णिदोलिया स्त्री [निन्दुलिमा] नीम का फल (याया १, १६)।

णिकर पु [निकर] समूह, जलिया, राशि, ढेर, (कप्प)।
 णिकरण न [निकरण] १ निश्चय, निर्णय। २ निकार, दुःख-उत्पादन (आचा)।
 णिकरिय वि [निकरित्त] सारीकृत, सर्वथा संशोधित (अप)।
 णिकस देखो णिहस (अणु २१२)।
 णिकाइय वि [निकाचित्त] १ व्यवस्थापित, नियमित (एदि)। २ अत्यन्त निविड रूप से हुआ (कर्म) (उव, सुपा ५७६)। न कर्मों का निविड रूप से बन्धन (ठा ४, २)।
 णिकाम सक [नि + कामय्] अभिलाष करना। णिकामएजा (सूत्र १, १०, ११)। वक्क णिकामयत्त (सूत्र १, १०, ११)।
 णिकाम न [निकाम] हमेशा परिमाण से ज्यादा खाया जाता भोजन (पिड ६४५)।
 णिकाम न [निकाम] १ निश्चय, निर्णय। २ अत्यन्त, अतिशय (सूत्र १, १०)।
 णिकाममीण वि [निकाममीण] अत्यन्त प्रार्थी (सूत्र १, १०, ८)।
 णिकाय सक [नि + काचय्] १ नियमन करना, नियन्त्रण करना। २ निविड रूपसे बाँधना। ३ निमन्त्रण देना। णिकाइति (भग)। भूका णिकाइसु (भग, सूत्र २, १)। भवि णिकाइससति (भग)। सक्क णिकाय (आचा)।
 णिकाय पु [निकाय] १ समूह, जलिया, वृक्ष, वर्ग, राशि (अप ४०७, विसे ६००, ८ २८)। २ मोक्ष, मुक्ति (आचा)। ३ आवश्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान-विशेष (अणु)। 'काय पु [काय] जीव-राशि, छत्रों प्रकार के जीवों का समूह (दस ४)।
 णिकाय पु [निकाच] निमन्त्रण, न्यौता (सम २१)।
 णिकाय देखो णिकाइय, जेण समासहिणएण कएणा कम्मएणवि निकायाएण' (सिदि १२६२)।
 णिकायण न [निकाचन] निमन्त्रण (पिड ४७५)।
 णिकायणा स्त्री [निकाचना] १ कारण-विशेष, जिससे कर्मों का निविड बन्ध होता है (विसे २५१५ टी, भग)। २ निविड बन्धन। ३ दापन, दलाना (राज)।

पाण्डिअ वि [नखिन्] सुन्दर नखवाला (बृह १)।

पाण्डिअ देखो पाण्डिअ (कुप्र ५८)।

पाण्डिअ देखो पाण्डिअ = नग (पण्डि १, ४, उप ३५६ टी, सुर ३, ३४)। °राय पु [°राज] मेरु पर्वत (ठा ६)। [°वर] पु [°वर] श्रेष्ठ पर्वत (साया १, १)। °वरिन्द पु [°वरेन्द्र] मेरुपर्वत (पउम ३, ७६)।

पाण्डिअ न [नगर, नगर] शहर, पुर (बृह १, कप, सुर ३, २०) °गुप्तिय, °गोप्तिय पु [°गुप्तिक] नगर रक्षक, कोटपाल, कोतवाल, दरोगा (साया १, १८, श्रौप, पण्डि १, २, साया १, २)। °घात पु [°घात] शहर मे बूट-पाट (साया १, १८)। °गिद्धमण न [°निर्धमन] नगर का पानी जाने का रास्ता, मोरी, बाल (साया १, २)। °रक्षिख्य पु [°रक्षिक] देखो °गुप्तिय (निचू ४)। °वास पु [°वास] राजधानी, पाटनगर (ज १—पत्र ७४)।

पाण्डिअ देखो पाण्डिअ (राज)।

पाण्डिअ आ ली [नगाणिका] छन्द-विशेष (पिंग)।

पाण्डिअ पु [नगेन्द्र] १ श्रेष्ठ पर्वत (पउम ६७, २७)। २ मेरु पर्वत (सूअ १, ६)।

पाण्डिअ वि [नग] नगा, वल्ल-रहित (आचा, उप पु ३६३)।

पाण्डिअ देखो पाण्डिअ (तदु ४५)।

पाण्डिअ वि [नग] नगा, वल्ल-रहित (प्राप्र, दे ४, २८)। °इ पुं [°जित्] गन्धार देश का एक स्वनाम-ख्यात राजा (श्रौप, महा)।

पाण्डिअ वि [दे] निर्गत, बाहर निकला हुआ (पण्डि—शुभ १८१)।

पाण्डिअ पु [न्यग्रोध] वृक्ष-विशेष, वड का पेड (पाप्र, सुर १, २०५)। °परिमण्डल न [°परिमण्डल] सस्यान-विशेष, शरीर का आकार-विशेष (ठा ६)।

पाण्डिअ पु [नघुप] स्वनाम-ख्यात एक राजा (पउम २२, ५५)।

पाण्डिअ देखो अइरा = अचिरात् (पि ३६६)।

पाण्डिअ अक [नृत्] नाचना, नृत्य करना। एचइ (पण्डि) वक्र पाण्डिअ, पाण्डिअण (सुर

२, ७५, ३, ७७)। हेकू. पाण्डिअ (गा ३६१) कू. पाण्डिअव्य (पउम ८०, ३२)। प्रयो कवकू पाण्डिअविज्जत (स २६)।

पाण्डिअ न [ज्ञत्व] जानकारी, परिणताई (कुमा)।

पाण्डिअ न [नृत्य] नाच, नृत्य (दे ५, ८)।

पाण्डिअ वि [नर्तक] १ नाचनेवाला। पु नट, नचवैया (वव ६)।

पाण्डिअ न [नर्तन] नाच, नृत्य (कपू)।

पाण्डिअ ली [नर्तनी] नाचनेवाली ली (कुमा, कपू, सुपा १६६)।

पाण्डिअ } देखो पा = ज्ञ।

पाण्डिअविअ वि [नर्तित] नचाया हुआ (श्रीघ २६५, ठा ६)।

पाण्डिअसन्न न [नात्यासन्न] अति समीप मे नही (साया १, १)।

पाण्डिअ वि [नर्तित्व] नचवैया, नाचनेवाला, नर्तन-शील (गा ४२०, सुपा ५४, कुमा)।

पाण्डिअ वि [दे] रमण-शील (दे ४, १८)।

पाण्डिअचुण्ड वि [नात्युष्ण] जो अति गरम न हो (ठा ५, ३)।

पाण्डिअ सक [ज्ञा] जानना। एण्डइ (प्राप्र)।

पाण्डिअ वि [न्याय्य] न्याय-सगत (प्राक १६)।

पाण्डिअ } देखो पा = ज्ञ।

पाण्डिअ वि [दे] मलिन, मैला (दे ४, १६)।

पाण्डिअ वि [दे] विमल, निर्मल (दे ४, १६)।

पाण्डिअ अक [नट] १ नाचना। २ सक हिसा करना। एण्डइ (हे ४, २३०)।

पाण्डिअ पु [नट] नर्तको की एक जाति, 'एण्डइति एण्डइ पण्डइति विष्णो' (रभा, सण, कपू)।

पाण्डिअ न [नाट्य] नृत्य, गीत और वाद्य, नट-कर्म (साया १, ३, सम ८३)। °पाल पु [°पाल] नाट्य-स्वामी, सूत्रधार (आचू १)। °माल्य पु [°मालक] देव विशेष, खण्डप्रपात गुहा का अधिष्ठायाक देव (ठा २, ३)। °अरिअ पुं [°आर्य] सूत्रधार (मा ४)।

पाण्डिअ [नृत्य] नाच, नृत्य (से १, ८, कपू)।

पाण्डिअ न [नाट्यक] देखो पाण्डिअ = नाट्य (मा ४)।

पाण्डिअ } वि [नर्तक] नाचनेवाला, नचवैया
पाण्डिअ } (प्राप्र, साया १, १, श्रौप)। ली
°ई (प्राप्र, हे २, ३०, कुमा)।

पाण्डिअ पु [नाट्यकार] नाट्य करनेवाला (सण)।

पाण्डिअविअ वि [नर्तक] नचावेवाला (कपू)।

पाण्डिअ ली [नर्तिका] नटी, नर्तकी, नाचने-वाली ली (महा)।

पाण्डिअमत्त पु [नर्तकमत्त] स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर (महा)।

पाण्डिअ पु [नट] एक नरक स्थान (देवेन्द्र २८)। २ न पलायन (कुप्र ६७)।

पाण्डिअ वि [नट] १ नट, अणगत, नाश-प्राप्त (सूअ १, ३, ३, प्रासू ८६)। २ पुन अहो-रात्र का सतरहवाँ घूर्णत (राज)। सुइअ वि [°श्रुतिक] १ जो बधिर—बहुरा हुआ हो (साया १, १—पत्र ६३)। २ शास्त्र के वास्तविक ज्ञान से रहित (राज)।

पाण्डिअ वि [नष्टवत्] १ नाश प्राप्त। २ न, अहोरात्र का एक घूर्णत (राज)।

पाण्डिअ अक [गुप्] १ व्याकुल होना। २ सक खिन्न करना। एण्डइ, एण्डइति (हे ४, १५०, कुमा)। कर्म एण्डइइ (गा ७७)। कवकू पाण्डिअजित (सुपा ३३८)।

पाण्डिअ देखो पाण्डिअ = नट। एण्डइ (प्राक ६६)।

पाण्डिअ देखो पाण्डिअ = नट (हे २, १०२)।

पाण्डिअ पु [नट] १ नर्तको की एक जाति, नट (हे १, १६५, प्राप्र)। °खाइया ली [°खादित] दीक्षा-विशेष, नट की तरह कृत्रिम साधुपन (ठा ४, ४)।

पाण्डिअ ल न [ललाट] भाल, कपाल (हे १, ४७, २५७, गण्ड)।

पाण्डिअलिआ ली [ललाटिका] ललाट-शोभा, कपाल मे चन्दन आदि का विलेपन (कुमा)।

पाण्डिअविअ वि [गोपित] १ व्याकुल किया हुआ। खिन्न किया हुआ (सुपा ३२५)।

पाण्डिअ वि [गुपित] व्याकुल (से १०, ७०, सण)।

पाण्डिअ वि [दे] १ वञ्चित, विप्रतारित (दे ४, १६)। २ खेदित, खिन्न किया हुआ (दे ४, १६, पाप्र, साया १, ६)।

णिकिद्ध वि [निकृष्ट] अधम, नीच, हीन, जघन्य, 'अइनिकिद्धपाविद्धयावि अहा' (श्रा १४, २७, सुपा ५७१, सट्टि १५८) ।
 णिकिण सक [निर् + क्री] निष्कय करना, खरीदना । णिकिण्णासि (मुच्छ ६१) ।
 णिकिन्तिम वि [निष्कृत्रिम] अकृत्रिम, असली, स्वाभाविक (उप ६८६ टी) ।
 णिक्रिय वि [निष्क्रिय] क्रिया-रहित, अक्रिय (परह १, २) ।
 णिक्रिय वि [निष्कृप] कृपा-रहित, निर्दय (पात्र, गा ३०, सुपा ४०६) ।
 णिक्रीलिय वि [निष्क्रीडित] गमन, गति (पव २७१) ।
 णिककुड पु [निष्कुट] तापन, तपाना (राज) ।
 णिककूड्ल वी [दे] जीता हुआ, विनिर्जित (दे १, ४) ।
 णिककोडण न [निष्कोटन] बन्धन - विशेष (परह १, ३—पत्र ५३) ।
 णिककोर सक [निर् + कोरय्] १ दूर करना । २ पात्र वनैरह के मुँह का बन्द करना । ३ पात्र आदि का तक्षण करना । णिककारेड (बृह १) ।
 णिककोरण न [निष्कोरण] १ पात्र आदि के मुँह का बन्द करना । २ पात्र आदि का तक्षण (बृह १) ।
 णिकख पु [दे] १ चोर । २ सुवर्ण, काञ्चन (दे २, ४७) ।
 णिकख पुन [निष्क] दीनार, मोहर, मुद्रा, अशर्फी, रुपया (हे २, ४) ।
 णिकखत देखो णिकत (सूत्र १, ८, सम १५१, कस) ।
 णिकखध वि [नि स्न्ध] स्कन्ध-रहित, डाली-रहित (गा ४६८ अ) ।
 णिकखणण न [निखनन] गाढना (कुप्र १६१) ।
 णिकखत्त वि [नि क्षत्र] क्षत्र रहित, क्षत्रिय-रहित (पि ३१६) ।
 णिकखम अक [निर् + क्रम्] १ बाहर निकलना । २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना । णिकखमइ (भग) । णिकखमति (कम्प) ।
 मुक्का-णिकखमिमु (कम्प) । भवि णिकख-

मिस्सति (कम्प) । वक्क णिकखममाण (शाया १, ५, पठम २२, १७) । सक णिकखम्म (कम्प) । हेक्क णिकखमित्तए (कम्प, कस) ।
 णिकखम पुन [निष्कम] १ निर्गमन । २ दीक्षा-ग्रहण (ठा १०, दस १०) ।
 णिकखमण न [निष्कमण] ऊपर देखो (सुज १३, शाया १, १६, पठम २३, ४) ।
 णिकखय वि [निखात] गाढा हुआ (कुप्र २५) ।
 णिकखय वि [दे, निक्षत] निहत, मारा हुआ (दे ४, ३२, पात्र) ।
 णिकखविअ वि [निक्षपित] नष्ट किया हुआ, विनाशित (अच्छु ३१) ।
 णिकखसरिअ वि [दे] भुषित, जो सूट लिया गया हो, अपहृत सार (दे ४, ४१) ।
 णिकखाविअ वि [दे] शान्त, उपशम-प्राप्त (पड्) ।
 णिकखत्त वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त, स्थापित (पात्र, परह १, ३) । २ मुक्त, परित्यक्त (शाया १, १, वव २) । ३ पाक-भाजन में स्थित (परह २, १) । ४ चर वि [चर] पाक-भाजन में स्थित वस्तु को भिक्षा के लिए खोजनेवाला (परह २, १, औप) ।
 णिकिक्कपमाण नीचे देखो ।
 णिकिखव सक [नि + क्षिप्] १ स्थापन करना, स्वस्थान में रखना । २ परित्याग करना । णिकिखवइ (महा) । णिकिखवत्त (निच्च १६) । कवक्क णिकिखवपमाण (आचा) । सक णिकिखवित्ता, णिमिग्वविअ, णिकिखविड (कस, पि ३१६, नाट—विक्र १०३, वव १) । क णिकिखविअव्व, णिकिखत्तव्व (परह १, १, विसे ६१७) ।
 णिकिखव सक [नि + क्षिप्] नाम आदि भेदों से वस्तु का निरूपण करना । निक्खिखे (अणु १०) । भवि निक्खिखिस्सामि (अणु १०) ।
 णिकिखव पु [निक्षेप] १ स्थापन । २ न्यास-स्थापन, धरोहर, धन आदि जमा रखना (श्रा १४) ।
 णिकिखवण न [निक्षेपण] १ स्थापन । २ डालना (सुपा ६२६, पडि) ।

णिकिखुड वि [दे] अकम्प, स्थिर (२८) ।
 णिकिखुड पुन [निष्कुट] १ कोटर, विवर (तडु २६) । २ पृथिवी खण्ड १५३८, पच २, ३२) । ३ गृहाराम घर के पास का बगीचा (राय २५) ।
 णिकिखुड पु [निष्कुट] भूमि-खण्ड १५३८) ।
 णिकिखुत्त न [दे] निश्चित नक्की, अवश्य, 'पत्ते विण्णासकाले नासइ बुद्धं निक्खुत्त' (पठम ५३, १३८), 'वत्त निक्खुत्त' (पठम १०, ८५) ।
 णिकिखुरिअ वि [दे] अट्ट, अस्त्रिण ४०) ।
 णिकिखेड पु [निष्खेट] अधमता, दुष्टता (सुपा २७६) ।
 णिकिखेत्तव्व देखो णिकिखव = नि णिकिखेव पु [निक्षेप] १ न्यास (अणु) । २ परित्याग, मोचन (आच १, १) । ३ धरोहर, धन आदि जमा (पठम ६२, ६) ।
 णिकिखेवण न [निक्षेपण] १ निक्षेपन (पव ६) । २ व्यपस्थापन, न्यास ६१२) ।
 णिकिखेवणया } वी [निक्षेपणा]
 णिकिखेवणा } विन्यास (उवा, कम्प)
 णिकिखेवय पु [निक्षेपक] निगमन, (बृह १) ।
 णिकिखेविय वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त पित । २ मुक्त, परित्यक्त (अणु) ।
 णिकिखेविय वि [निक्षेपित] ऊप (भवि) ।
 णिकिखोभ } पु [नि क्षोभ] क्षो
 णिकिखोह } निष्कम्प (सम १०६, च
 णिकिखय देतो णिकिखय (कुप्र २२३)
 णिकिखव न [निखव] सत्या-विशेष, सौ अरव (राज) ।
 णिकिखिल वि [निखिल] सर्व सक (अणु, नाट—महावीर ६७) ।
 णिकिखिल देखो णिकिख (विसे १३३२) ।
 णिकिख सक [निगडय्] नियन्त्रित वाधना । सक. निगडिऊण (कुप्र ।

पामिआ स्त्री [नमिता] १ स्वनाम-ख्यात एक स्त्री । २ 'जाताधर्मकथासूत्र' का एक अध्यायन (शाया २) ।

पामिर वि [नम्र] नमन करनेवाला (कुमा, सुपा २७, सण) ।

पामुइ पु [नमुचि] स्वनाम-ख्यात एक मन्त्री (महा) ।

पामुदय पृ [नमुदय] आजोविक मत का एक उपासक (भग ७, १०) ।

पामेरु पु [नमेरु] वृक्ष विशेष (सुर ७, १६, स ६३३) ।

पामो भ्र [नमस्] नमस्कार, नमन (भग, कुमा) ।

पामोकार पु [नमस्कार] १ नमन, प्रणाम (हे १, ६२, २, ४) । २ जैन-शास्त्र में प्रसिद्ध एक सूत्र—मन्त्र-विशेष (विसे २८०५) । ३ सहिय न [सहित] प्रत्याख्यान-विशेष, व्रत विशेष (पडि) ।

पामोयार देखो पामोकार (चड) ।

पाम्म पु न [नर्मन्] १ हाँसी, उपहास । २ क्रीडा, केलि (हे १, ३२, आ १४, दे २, ६४, पाम्म) ।

पाम्मया स्त्री [नर्मदा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदी (सुपा ३८०) । २ स्वनाम-ख्यात एक राज-पत्नी (स ५) ।

पाम्य देखो पाम्म = नद्, 'विस्तर नयई नद्' (सम ५०) ।

पाम्य पु [नग] १ पहाड, पर्वत (उप पृ २५६, सुपा ३४८) । २ वृक्ष, पेड (हे १, १७७) । देखो पाम्म ।

पाम्य अ [नच] नदी (उप ७६८ टी) ।

पाम्य [नत] १ नमा हुआ, झुका हुआ, प्रणत, नम्र (शाया १, १) । २ जिसकी नमस्कार किया गया हो वह, 'नीसेसवियडपडिवक्खनयक्कमो निकमो राया' (सुपा ५६६) । ३ न देवविमान-विशेष (सम ३७) । ४ सब पु [सत्य] श्रोष्ट्या, नारायण (अञ्चु ७) ।

पाम्य पु [नय] १ न्याय, नीति (विसे ३३६५, सुपा ३४८, स ५०१) । २ युक्ति (उप ७६८) । ३ प्रकार, रीति, 'जलणा वि वेप्पई पवणा भुयां य केणइ नएण' (स ४५४) । ४ वस्तु

के अनेक धर्मों में किसी एक को मुख्य रूप से स्वीकार कर अन्य धर्मों की उपेक्षा करनेवाला मत, एकाश-आहूक बोध (सम्म २१, विसे ६१४, ठा ३, ३) । ५ विवि (विसे ३३६५) । ६ चद पु [चन्द्र] स्वनाम-ख्यात एक जैन ग्रन्थकार (रभा) । ७ स्थि वि [स्थिन्] न्याय चाहनेवाला (आ १४) । ८ व, वत वि [वत्] नीतिवाला, न्याय-परायण (सम ५०, सुपा ५४२) । ९ विजय पु [विजय] विक्रम की सतरहवीं शताब्दी के एक जैन मुनि, जो सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री यशोविजयजी के गुरु थे (उवर २०२) ।

पाम्यचक्र न [नयचक्र] एक प्राचीन जैन प्रमाण-ग्रन्थ (सम्मत् ११७) ।

पाम्यण न [नयन] १ ले जाना, प्रापण (उप १३४) । २ जानना, ज्ञान । ३ निश्चय (विसे ६१४) । ४ वि ले जानेवाला, 'वयणाइ सुपहनयणाई' (सुपा ३७७) । ५ पुन आंख, नेत्र, लोचन (हे १, ३३, पाम्म) । ६ जल न [जल] अशु, प्राप्त (पाम्म) ।

पाम्य पु [दे नवत] ऊन का बना हुआ आस्तरण-विशेष (शाया १, १—पत्र १३) ।

पाम्यर देखो पाम्म (हे १, १७७, सुर ३, २० श्रौप, भग) ।

पाम्यरगणा स्त्री [नगराङ्गना] वैश्या, गरिणका (आ २७) ।

पाम्यरी स्त्री [नगरी] शहर, पुरी (उपा, पउम ३६, १००) ।

पाम्य पु [नर] १ मनुष्य, मानुष, पुरुष (हे १, २२६, सूत्र १, १ ३) । २ अर्जुन, मध्यम पाण्डव (कुमा) । ३ उसभ पु [वृषभ] श्रेष्ठ मनुष्य, अग्रीकृत कार्य का निर्वाहक पुरुष (श्रौप) । ४ कतपवाय पु [कान्तप्रपात] हृद-विशेष (ठा २, ३) । ५ कता स्त्री [कान्ता] नदी-विशेष (ठा २, ३, सम २७) । ६ कता-कूड न [कान्ताकूट] रुक्मिण पर्वत का एक शिखर (ठा ८) । ७ दत्ता स्त्री [दत्ता] १ मुनि-सुव्रत भगवान् की शासनदेवी (राज) २ विद्यादेवी-विशेष (संति ५) । ३ देव पु [देव] चक्रवर्ती राजा (ठा ५, १) ४ नायग पु [नायक] राजा, नरपति (उप २११ टी) । ५ नाह पु

[नाथ] राजा, भूपाल (सुपा ६, सुर १, ६१) । ६ पहु पुं [प्रभु] राजा, नरेश (उप ७२८ टी, सुर ३, ८४) । ७ पौरुसि पुं [पौरुसिन्] राज-विशेष (उप ७२८ टी) । ८ लोअ पु [लोक] मनुष्य लोक (जी २२, सुपा ४१३) । ९ वइ पु [पति] नरेश, राजा (सुर १, १०४) । १० वर पु [वर] १ राजा, नरेश (सुर १, १३१, १५, १४) । २ उत्तम पुरुष (उप ७२८ टी) । ३ वरिद पु [वरेन्द्र] राजा भूमि-पति (सुपा ५६, सुर २, १७६) । ४ वरोसर पु [वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त १८) । ५ वसभ, वसह पु [वृषभ] १ देखो उसभ (पएह १, ४, सम १५३) । २ राजा, नृपति (पउम ३, १४) । ३ पु हरिवश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राजा (पउम २२, ६७) । ४ वाल पुं [पाल] राजा, भूपाल (सुपा २७३) । ५ वाहन पु [वाहन] स्वनाम-ख्यात एक राजा (आक १, सण) । ६ वेय पु [वेद] पुरुष वेद, पुरुष को स्त्री के स्पर्श की अभिलाषा (कम्म ४) । ७ सिघ, सिह, सीह पु [सिह] १ उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य (सम १५३, पउम १००, १६) । २ अर्ध भाग में पुरुष का श्रौर अर्ध भाग में सिह का आकारवाला, श्रीकृष्ण, नारायण (शाया १, १६) सुंदर पु [सुन्दर] स्वनाम-ख्यात एक राजा (धम्म) । ३ हिप्य पु [धिप] राजा, नरेश (गा ३६४, सुपा २५) ।

पाम्यइदय पु [नरकेन्द्रक] नरक-स्थान-विशेष (देवेन्द्र १) ।

पाम्यकठ पु [नरकण्ठ] रत्न की एक जाति (राय ६७) ।

पाम्यसिह पु [नरसिह] १ बलदेव, 'तत्तो लोयम्मि वलदेवो नरसिहो ति पसिद्धो' (कुप्र १०३) । २ एक राजकुमार (कुप्र १०६) ।

पाम्य पु [नरक] नारक जीवों का स्थान पाम्य (विपा १, १, पउम १४, १६, आ ३, प्रासु २६, उव) । ४ वाल, वालय पुं [पाल, क] परमाधार्मिक देव, जो नरक के जीवों को याचना (पीडा) देते हैं (पउम २६, ५१, ८, २३७) ।

गिज्जाण न [निर्याण] १ बाहर निकलना, निर्गम (ठा ५, ३) । २ आवृत्ति-रहित गमन (श्रौप) । ३ मोक्ष, मुक्ति (आव ४) ।

गिज्जाणिय वि [नैर्याणिक] निर्याण-सबन्धी, निर्गम-सबन्धी (भग १३, ६, निचू ८) ।

गिज्जामग } पु [निर्यामक] कर्णधार,
गिज्जामय } जहाज का नियन्ता (विसे २६५६, णाय १, १७, श्रौप, सुर १३, ४८) ।

गिज्जामण न [निर्यापन] बदला चुकाना, 'वेरणिज्जामण' (वव १) ।

गिज्जामय पु [निर्यामक] १ बीमार की सेवा-शुश्रूषा करनेवाला मुनि (पव ७१) ।
२ वि. आराधना-कारक (पव-गाथा १७) ।

गिज्जामिय वि [निर्यामित] पार पहुँचाया हुआ, तारित (महा) ।

गिज्जाय पुं [दे] उपकार (दे ४, ३४) ।

गिज्जाय वि [निर्यात] निर्गत, निस्त (वसु, उप ५ २८६) ।

गिज्जायण न [निर्यातन] वैर-शुद्धि, बदला (महा) ।

गिज्जायणा स्त्री [निर्यातना] ऊपर देखो (उप ४३१ टी) ।

गिज्जावय देखो गिज्जामय (भवि) ।

गिज्जास पुं [निर्यास] बुझो का रस, गोद, (सुअ २, १) ।

गिज्जिअ वि [निर्जित] जीता हुआ, पराभूत (श्रोष १८ भा टी, सुर ६, ३६, श्रौप) ।

गिज्जिण सक [निर् + जि] जीतना, पराभव करना । निज्जिणइ (भवि) सक्रु निज्जिणिऊण, (महा) ।

गिज्जिणिय देखो गिज्जिअ (सुपा २६) ।

गिज्जिणण } वि [निर्जाण] नाश प्राप्त,
गिज्जिण } क्षीण (भग, ठा ४, १) ।

गिज्जीव वि [निर्जीव] जीव-रहित, चैतन्य वञ्चित (श्रौप, आ २०, महा) ।

गिज्जुज [निर् + युज्] उपकार करना (पिड २६ टी) ।

गिज्जुत्त वि [निर्युक्त] १ संबद्ध, सयुक्त (विस् १०८५, श्रोष १ भा) । २ खचित, जडित (श्रौप) । ३ प्ररूपित, प्रतिपादित (आवम) ।

गिज्जुक्ति स्त्री [निर्युक्ति] व्याख्या, विवरण, टीका (विसे ६६५, श्रोष २, सम १०७) ।

गिज्जुद्ध देखो गिउद्ध (स ४७०) ।

गिज्जूढ वि [निर्युढ] १ निस्सारित, निष्कासित (णाय १, १—पत्र ६४) २ अमनोज्ञ, अमुन्दर (श्रोष ५४८) । ३ उद्घृत, ग्रन्थान्तर से अवतारित (दसनि १) ।

गिज्जूढ वि [निर्युढ] रहित, 'निट्ठाण रस-निज्जूढ' (दस ८, २२) ।

गिज्जूह सक [निर् + यूह] १ परित्याग करना । २ रचना, निर्माण करना । कर्म, गिज्जूहहिज्जइ (पि २२१) । हेकू गिज्जूहित्तए (वव २) । कू गिज्जूहियव्व (कप्प) ।

गिज्जूह पु [दे निर्युह] १ नीच, छदि, गृहाच्छादन, पाटन (दे ४, २८, स १०६) । २ गवाक्ष, गोख, 'इय जाव चित्तए मती गिज्जूहट्टिमो' (धम्म ६ टी, वव १) । ३ द्वार के पास का काष्ठ-विशेष (णाय १, १—पत्र १२, पणह १, १) । ४ द्वार, दरवाजा (सुर २, ८३) ।

गिज्जूहण वि [निर्युहण] ग्रन्थान्तर से उद्घृत करनेवाला (दसनि १, १४) ।

गिज्जूहण न [निर्युहण] देखो गिज्जूहणा (उत्त ३६, २५१, पव २) ।

गिज्जूहणया } स्त्री [निर्युहणा] १ निस्सा-
गिज्जूहणा } रण, बाहर निकालना (वव १) । परित्याग (ठा ४, २) । ३ विरचना, निर्माण (विसे ५५१) ।

गिज्जूहिअ देखो गिज्जूढ (दसनि १, १५) ।

गिज्जूहिअ वि [निर्युहित] रहित (पव १३४) ।

गिज्जोअ पु [दे] १ प्रकार, राशि । २ पुष्पो का श्रवकर (दे ४, ३३) ।

गिज्जोअ } पुं [नियोग] १ उपकरण,
गिज्जोग } साधन (राय ४५, ४६, पिड २६) । २ उपकार (पिड २६) ।

गिज्जोअ } पु [दे. नियोग] परिकर,
गिज्जोग } सामग्री, 'पायणिज्जोगो' (श्रोष ६६८, णाय १, १—पत्र ५४) ।

गिज्जोमि पु [दे] रज्जु, रस्सी (दे ४, ३१) ।

गिज्जभ अक [रिन्ह] स्नेह करना । गिज्जभइ (प्राक २८) ।

गिज्जभर अक [क्षि] क्षीण होना । गिज्जभरइ (हे ४, २०, पड) । वकू. गिज्जभरत (कुमा ६, १३) ।

गिज्जभर वि [दे] जोरुं, पुराना (दे ४, २६) । गिज्जभर पुं [निर्भर] भरना, पहाड से गिरता पानी का प्रवाह (हे १, ६८, २, ६०) ।

गिज्जभरण न [निर्भरण] ऊपर देखो (पजम ६४, ५२, सुर ६, ६४, सुपा ३५५) ।

गिज्जभरणी स्त्री [निर्भरणी] नदी, तरगिणी (कुमा) ।

गिज्जभा सक [नि+ध्वै] देखना, निरीक्षण करना । गिज्जभाइ, गिज्जभाअइ (हे ४, ६) । वकू गिज्जभाअत, गिज्जभाएमाण (भा ४, आचा २, ३, १) । सकू गिज्जभाइऊण, गिज्जभाइत्ता (महा, आचा) ।

गिज्जभा सक [निर् + ध्वै] विशेष चिन्तन करना । सकू गिज्जभाइत्ता (आचा) । गिज्जभाइ वि [निध्यायिन्] देखनेवाला (आचा) ।

गिज्जभाइत्तु वि [निध्यात्] देखनेवाला, निरीक्षक (उत्त १६, सम १५) ।

गिज्जभाइत्तु वि [निध्यात्] अतिशय चिन्तन करनेवाला (ठा ६) ।

गिज्जभाइय वि [निध्यात] १ दृष्ट, विलोकित (स ३५२, घण ४५) । २ न दर्शन, निरीक्षण (महा—पृष्ठ ५८) ।

गिज्जभाडिय वि [निर्धाटित] विनाशित (उप ६४८ टी) ।

गिज्जभाय वि [दे] निर्दय, दया-रहित (दे ४, ३७) ।

गिज्जभाय वि [निध्यात्] दृष्ट, विलोकित (सुर ६, १८८, सुपा ४४८) ।

गिज्जभूर वि [दे] जोरुं, पुराना (दे ४, २६) ।

गिज्जभोड सक [छिद्] छेदना, काटना । गिज्जभोडइ (हे ४, १२४) ।

गिज्जभोडण न [छेदन] छेदन, कटन (कुमा) ।

गिज्जभोसइत्तु वि [निर्भोपयित्] क्षय करनेवाला, कर्मों का नाश करनेवाला (आचा) ।

गिहृक वि [दे] १ टक-वृद्ध । २ विपम, असमान (४, ५०) ।

गिहृकिय वि [निष्टङ्गित] निश्चित, अवधारित (सुपा २६०) ।

णवरत्ति स्त्री [नवरात्रि] नव दिनो का
श्राश्विन मास का एक पर्व (सद्वि ७८) ।

णवरि अ [दे] शीघ्र, जल्दी, (प्राक् ८१) ।

णवरि } देखो णवर (हे २, १८८, से १,
णवरिअ } ३६, प्रामा, सुर, २६, षड्, गा
१७२) ।

णवरिअ न [दे] सहसा, जल्दी, तुरन्त (दे
४, २२, पात्र) ।

णवरु देखो णवर (चड) ।

णवलया स्त्री [दे] वह व्रत, जिसमे पति का
नाम पूछने पर उसे नही बतानेवाली स्त्री
पलाश की लता से ताडित की जाती है (हे
४, २१) ।

णवल देखो णव = नव (हे २, १६५, कुमा,
उप ७२८ टी) ।

णवसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती (हे
४, २२, पात्र, वजा ८६) ।

णवा स्त्री [नवा] १ नवोढा, दुलहिन । २
युवति स्त्री (सुप्र १, ३, २) । ३ जिसको
दीक्षा लिए तीन वर्ष हुए हो ऐसी साध्वी
(वव ४) । ४ अ प्रश्नार्थक अव्यय, अथवा
नही ? (रयण ६७) ।

णवि अ १ वैपरीत्य-सूचक अव्यय, 'एवि हा
'वणे' (हे २, १७८, कुमा) । २ निषेधार्थक
अव्यय (गडड) ।

णविअ देखो णमिअ = नत (हे ३, १५६,
भवि) ।

णविअ वि [नव्य] नूतन, नया (आचा २,
३, ३) ।

णवीण वि [नवीन] नूतन, नया (मोह ८३,
धमवि १३२) ।

णवुत्तरसय वि [नवोत्तरशततम] एक सौ
नववा (पउम १८६, २७) ।

णवुड्डय (अप) देखो णव = नव (कुमा) ।

णवोढा स्त्री [नवोढा] नव-विवाहिता स्त्री,
दुलहिन (काप्र १६७) ।

णवोद्धरण न [दे] उच्छिष्ट, झूठा (दे ४,
२३) ।

णव्व पु [दे] श्रायुक्त, गांव का मुखिया (दे
४, १७) ।

णव्व वि [नव्य] नूतन, नया, नवीन
(आ २७) ।

णव्व° देखो णा = ज्ञा ।

णव्वाउत्त पु [दे] १ ईश्वर, धनाढ्य, भोगी ।
२ नियोगी का पुत्र, सूवेदार का लडका (दे
४, २२) ।

णस सक [नि + अस्] स्थापन करना ।
नसेज्ज (विसे ६४३) । कर्म नस्सए (विसे
६७०) । सक नसिऊण (स ६०८) ।

णस अक्क [नश्] भागना, पलायन करना ।
एसइ (पिंग) ।

णसण न [न्यसन] न्यास, स्थापन (जीव १) ।
णसा स्त्री [दे] नस, नाडी, 'असुईरमनिष्करणे
हड्डुक्करडम्मि चम्मनसनद्धे' (सुपा ३५५) ।

णसिअ वि [नष्ट] नाश-प्राप्त (कुमा) ।

णस्स देखो नस = नश् । एस्सइ, एस्सए,
(पड्, कुमा) । वक्क नस्सत, नरसमाण
(आ १६, सुपा २१५) ।

णस्सर वि [नश्चर] विनश्चर, भगुर, नाश
पानेवाला, 'खणनस्सराइ ख्वाइ' (सुपा
२४३) ।

णस्सा स्त्री [नासा] नासिका, प्राणेन्द्रिय
(नाट-मुच्छ ६२) ।

णह देखो णक्ख (सम ६०, कुमा) ।

णह न [नभस्] १ आकाश, गगन (प्राप्र, हे
१, ३२) । २ पु श्रावण मास (दे ३, १६) ।
°अर वि [°चर] १ आकाश मे विचरनेवाला
(से १४, ३८) । २ पु विद्याधर, आकाश-
विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६) । °केउमड्डिय
न [°केतुमड्डित] विद्याधरो का एक
नगर (इक) । °गमा स्त्री [°गमा] आकाश-
गामिनी विद्या (सुर १३, १८६) । °गामिणी
स्त्री [°गामिनी] आकाश गामिनी विद्या
(सुर ३, २८) । °चर देखो °अर (उप
५६७ टी) । °च्छेदणय न [°च्छेदनक]
नख उतारने का शस्त्र (आचा २, १, ७, १) ।
°तिलय न [°तिलक] १ नगर-विशेष ।
२ सुमट-विशेष (पउम ५५, १७) । °वाहण
पु [°वाहन] वृष-विशेष (सुर ६, २६) ।
°सिर न [°शिरस्] नख का अग्र भाग
(भग ५, ४) । °सिहा स्त्री [°शिखा] नख
का अग्र भाग (कप) । °सेण पु [°सेन]
राजा उग्रसेन का एक पुत्र (राज) । °हरणी
स्त्री [°हरणी] नख उतारने का शस्त्र (बृह ३) ।

णह न [नभस्] १ आकाश, गगन (प्राप्र, हे
१, ३२) । २ पु श्रावण मास (दे ३, १६) ।
°अर वि [°चर] १ आकाश मे विचरनेवाला
(से १४, ३८) । २ पु विद्याधर, आकाश-
विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६) । °केउमड्डिय
न [°केतुमड्डित] विद्याधरो का एक
नगर (इक) । °गमा स्त्री [°गमा] आकाश-
गामिनी विद्या (सुर १३, १८६) । °गामिणी
स्त्री [°गामिनी] आकाश गामिनी विद्या
(सुर ३, २८) । °चर देखो °अर (उप
५६७ टी) । °च्छेदणय न [°च्छेदनक]
नख उतारने का शस्त्र (आचा २, १, ७, १) ।
°तिलय न [°तिलक] १ नगर-विशेष ।
२ सुमट-विशेष (पउम ५५, १७) । °वाहण
पु [°वाहन] वृष-विशेष (सुर ६, २६) ।
°सिर न [°शिरस्] नख का अग्र भाग
(भग ५, ४) । °सिहा स्त्री [°शिखा] नख
का अग्र भाग (कप) । °सेण पु [°सेन]
राजा उग्रसेन का एक पुत्र (राज) । °हरणी
स्त्री [°हरणी] नख उतारने का शस्त्र (बृह ३) ।

णह देखो णक्ख (सम ६०, कुमा) ।

णह न [नभस्] १ आकाश, गगन (प्राप्र, हे
१, ३२) । २ पु श्रावण मास (दे ३, १६) ।
°अर वि [°चर] १ आकाश मे विचरनेवाला
(से १४, ३८) । २ पु विद्याधर, आकाश-
विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६) । °केउमड्डिय
न [°केतुमड्डित] विद्याधरो का एक
नगर (इक) । °गमा स्त्री [°गमा] आकाश-
गामिनी विद्या (सुर १३, १८६) । °गामिणी
स्त्री [°गामिनी] आकाश गामिनी विद्या
(सुर ३, २८) । °चर देखो °अर (उप
५६७ टी) । °च्छेदणय न [°च्छेदनक]
नख उतारने का शस्त्र (आचा २, १, ७, १) ।
°तिलय न [°तिलक] १ नगर-विशेष ।
२ सुमट-विशेष (पउम ५५, १७) । °वाहण
पु [°वाहन] वृष-विशेष (सुर ६, २६) ।
°सिर न [°शिरस्] नख का अग्र भाग
(भग ५, ४) । °सिहा स्त्री [°शिखा] नख
का अग्र भाग (कप) । °सेण पु [°सेन]
राजा उग्रसेन का एक पुत्र (राज) । °हरणी
स्त्री [°हरणी] नख उतारने का शस्त्र (बृह ३) ।

णह देखो णक्ख (सम ६०, कुमा) ।

णह न [नभस्] १ आकाश, गगन (प्राप्र, हे
१, ३२) । २ पु श्रावण मास (दे ३, १६) ।
°अर वि [°चर] १ आकाश मे विचरनेवाला
(से १४, ३८) । २ पु विद्याधर, आकाश-
विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६) । °केउमड्डिय
न [°केतुमड्डित] विद्याधरो का एक
नगर (इक) । °गमा स्त्री [°गमा] आकाश-
गामिनी विद्या (सुर १३, १८६) । °गामिणी
स्त्री [°गामिनी] आकाश गामिनी विद्या
(सुर ३, २८) । °चर देखो °अर (उप
५६७ टी) । °च्छेदणय न [°च्छेदनक]
नख उतारने का शस्त्र (आचा २, १, ७, १) ।
°तिलय न [°तिलक] १ नगर-विशेष ।
२ सुमट-विशेष (पउम ५५, १७) । °वाहण
पु [°वाहन] वृष-विशेष (सुर ६, २६) ।
°सिर न [°शिरस्] नख का अग्र भाग
(भग ५, ४) । °सिहा स्त्री [°शिखा] नख
का अग्र भाग (कप) । °सेण पु [°सेन]
राजा उग्रसेन का एक पुत्र (राज) । °हरणी
स्त्री [°हरणी] नख उतारने का शस्त्र (बृह ३) ।

णह देखो णक्ख (सम ६०, कुमा) ।

णहसि वि [नखवत्] नखवाला (दस ६,
६५) ।

णहमुह पु [दे] धुक, उल्लू (दे ४, २०) ।
णहर पु [नखर] नख, नाखून (सुपा ११,
६०६) ।

णहरण पु [दे] नखी, नखवाला जन्तु, धापद
(वज्जा १२) ।

णहरणी स्त्री [नखहरणी] नहरनी, नख
उतारने का शस्त्र (पचव ३) ।

णहराल पु [नखरिन्] नखवाला धापद जन्तु
(उप ५३० टी) ।

णहरी स्त्री [दे] क्षुरिका, छुरी (दे ४, २०) ।

णहवल्ली स्त्री [दे] मियुत्, विजली (दे
४, २२) ।

णहारु न [स्नायु] स्नायु, रग, नस, नाडी ।

णहि पु [नखिन्] नख-प्रधान जन्तु, श्वापद
जन्तु (अणु) ।

णहि वि [नखिन्] ऊपर देखो (अणु १४२) ।

णहि अ [नहि] निषेधार्थक अव्यय, नही
(स्वन् ४१, पिंग, सण) ।

णहु अ [नखलु] ऊपर देखो (नाट—मुच्छ
२६१, राया १, ६) ।

णा सक [ज्ञा] जानना, समझना । भवि
एहिइ (विसे १०१३) । एहिइसि (पि
५३४) । कर्म एव्वइ, एण्जइ (हे ४,
२५२) । कक्क णज्जत, णज्जमाण (से
१३, ११, उप १००१ टी) । सक णाउ,
णाऊण, णाऊण, णञ्जा, णञ्जाण (महा,
पि ५८६, श्रौप, सूअ १, २, ३, पि ५८७) ।
क णायव्व, णोअ (भग, जी ६, सुर ४,
७०, द २, हे २, १६३, नव ३१) ।

णा अ [न] निषेध-सूचक अव्यय (गडड) ।

णाअअ } देखो णायग (प्राक् २६) ।
णाअक्क }

णाअक्क (अप) देखो णायग (पिंग) ।

णाइ पु [ज्ञाति] इक्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न
क्षत्रिय-विशेष । °पुत्त पु [°पुत्र] भगवान्
श्री महावीर (आचा) । °सुय पु [°सुत]
भगवान् श्री महावीर (आचा) ।

णाइ स्त्री [ज्ञाति] १ नात, समान जाति
(पउम १००, ११, श्रौप, उवा) । २ माता-
पिता आदि स्वजन, मगा (राया १, १) ।
३ ज्ञान, बोध (आचा, ठा ५, ३) ।

णाइ पु [ज्ञाति] इक्ष्वाकु वंश मे उत्पन्न
क्षत्रिय-विशेष । °पुत्त पु [°पुत्र] भगवान्
श्री महावीर (आचा) । °सुय पु [°सुत]
भगवान् श्री महावीर (आचा) ।

णाइ स्त्री [ज्ञाति] १ नात, समान जाति
(पउम १००, ११, श्रौप, उवा) । २ माता-
पिता आदि स्वजन, मगा (राया १, १) ।
३ ज्ञान, बोध (आचा, ठा ५, ३) ।

णाइ स्त्री [ज्ञाति] १ नात, समान जाति
(पउम १००, ११, श्रौप, उवा) । २ माता-
पिता आदि स्वजन, मगा (राया १, १) ।
३ ज्ञान, बोध (आचा, ठा ५, ३) ।

कर्म गिणह्वीप्रदि (शौ) (नाट—रत्ना ३६) । वक्र गिणह्वत, गिणह्वेमाण (उप २११ टी; सुर ३, २०१) ।

गिणह्वग वि [निह्वावक] अपलाप करने-वाला (श्लो ४८ भा) ।

गिणह्वण न [निह्वन] अपलाप (विपा १, २, उव) ।

गिणह्वण वि [निह्वन] अपलाप-कर्ता (सवोध ५) ।

गिणह्विद देखो गिणहुविद (नाट—शकु १२६) ।

गिणहुय वि [निह्वुत] अपलापित (सुपा २६८) ।

गिणहुव देखो गिणह्व = नि + ह्वु । कर्म. गिणह्वविज्जति (पि ३३०) ।

गिणहुविद (शौ) वि [नि + ह्वुत] अपलापित (पि ३३०) ।

गितिय देखो गिञ्च (आचा; ठा १०) ।

गितुडिअ वि [नितुडित] दृष्टा हुआ, छिन्न (अञ्चु ५४) ।

गित्त देखो गेत्त (पात्र, सुपा २६१, लहुप्र १४) ।

गित्तम वि [निस्तमस्] १ अन्वकार-रहित । २ अज्ञान-रहित (अजि ८) ।

गित्तल वि [दे] अनिवृत्त (भग १५) ।

गित्ति (अप) देखो णीड (अवि) ।

गित्तिस वि [निखिशा] निर्दय, करुणा-हीन (सुपा ३१५) ।

गित्तिरडि वि [दे] निरन्तर, अव्यवहित (दे ४, ४०) ।

गित्तिरडिअ वि [दे] श्रुटित, दृष्टा हुआ (दे ४, ४१) ।

गित्तुप्प वि [दे] स्नेह-रहित, घृत्त आदि से वर्जित (वृह १) ।

गित्तुल वि [निस्तुल] १ निरुपम, असाधारण (उप पृ ५३) । २ क्रि वि असाधारण रूप से, 'अरणहा नित्तुल मरसि' (सुपा ३४५) ।

गित्तुस वि [निस्तुप] सुप-रहित, भूसा से रहित, विशुद्ध (पएह २, ४, उप १७६ टी) ।

गित्तेय वि [निस्तेजस्] तेज-रहित (शाया १, १) ।

गित्थण न [निस्तनन] विजय-सूचक ध्वनि (सुर २, २३३) ।

गित्थर सक [निर् + तृ] पार करना, पार उतरना । गित्थरेइ (सुपा ४४६), 'गित्थरति खलु कायरवि पायनिज्जामय-गुणेण महएणव' (स १६३) । कवक गित्थरिज्जंत (राज) । कृ गित्थरियच्च (शाया १, ३, सुपा १२६) ।

गित्थरण न [निस्तरण] पार-गमन, पार-प्राप्ति (ठा ४, ४, उप १३४ टी) ।

गित्थरिअ देखो गित्थिण (उप १३४ टी) ।

गित्थाण वि [नि स्थान] स्थान-रहित, स्थान-अष्ट (शाया १, १८) ।

गित्थाम वि [निस्थामन्] निर्बल, कमजोर, मन्द (पात्र, गउड, सुपा ४८६) ।

गित्थार सक [निर् + तारय] १ पार उतारना, तारना । २ बचाना, छुटकारा देना । गित्थारसु (काल) ।

गित्थार पु [निस्तार] १ छुटकारा, मुक्ति । २ बचाव, रक्षा । ३ उद्धार (शाया १, ६ टी—पत्र १६६, सुर २, ५१, ७, २०१, सुपा २६६) ।

गित्थारग वि [निस्तारक] पार जानेवाला, पार उतरनेवाला (स १८३) ।

गित्थारणा स्त्री [निस्तारण] पार-प्रापण, पार पहुँचाना (ज ३) ।

गित्थारिय वि [निस्तारित] बचाया हुआ, रक्षित, उद्घृत (भग, सुपा ४४६) ।

गित्थिण वि [निस्तीर्ण] १ उत्तीर्ण, पार-गित्थिण प्राप्त, 'गित्थिएणो सपुद्द' (स ३६७) । २ जिसको पार किया हो वह, 'गित्थिणा आवया गरुई' (सुर ८, ८६), 'गित्थिएणभवसपुद्दो' (स १३६) ।

गिदस सक [नि + दर्शय] १ उदाहरण बतलाना, दृष्टान्त दिखाना । २ दिखाना । गिदसेइ (पिग) । वक्र गिदसंत (सुपा ८६) ।

गिदसण न [निदर्शन] १ उदाहरण, दृष्टान्त (अभि २०३) । २ दिखाना (ठा १०) ।

गिदसअ वि [निदर्शित] प्रदर्शित, दिखाना हुआ; 'एव विचित्तकए निदसिओ नियकरो

मए तीए' (सुर ६, ८२, उप ६६७, सार्ध ४०) ।

गिदरिसण देखो गिदसण (उव, उप ३८४) ।

गिदरिसिम वि [निदर्शित] उपदर्शित, बतलाया हुआ (धर्मस १०००) ।

गिदा स्त्री [दे] १ वेदना-विशेष, ज्ञान-युक्त वेदना (भग १६, ५) । २ जानते हुए भी की जाती प्राणि-हिंसा (पिंड) ।

गिदाण देखो गिआण (विपा १, १, अत १५, नाट—वेणी ३३) ।

गिदाया देखो गिदा (पएण ३५) ।

गिदाह पु [निदाघ] १ धर्म, धाम, उष्ण । २ शीघ्र-काल, गरमी का मौसिम । ३ जेठ मास (आव ५) ।

गिदाह पु [निदाघ] तीसरा नरक का एक नरक-स्थान (वेवेन्द्र ८) ।

गिदाह पु [निदाह] असाधारण दाह (आव ५) ।

गिदेस पु [निदेश] आज्ञा, हुक्म (कुप्र ४२६) ।

गिदेसिअ वि [निदेशित] १ प्रदर्शित । २ उक्त, कथित (पउम ५, १४५) ।

गिदोच्च न [दे] १ भय का अभाव । २ स्वास्थ्य, तदुरुस्ती (पव २६८) ।

गिदभाण न [निद्राध्यायन] निद्रा में होता ध्यान, दुष्कर्म-विशेष (आव) ।

गिद्व वि [निद्वन्द्व] द्वन्द्व-रहित, क्लेश-वर्जित (सुपा ४५५) ।

गिदंभ वि [निर्दंभ] दंभ रहित, कपट-रहित (सुपा १४७) ।

गिदडी (अप) देखो गिदा = निद्रा (पि ५६६) ।

गिदड्ढ वि [निर्दग्ध] १ जलाया हुआ, भस्म किया हुआ (सुर १४, २६, अत १५) । २ पुं वृष-विशेष (पउम ३२, २२) । ३ रत्न-प्रभानामक नरक-गृथिवी का एक नरकावास (ठा ६) । भउम पुं [मध्य] नरकावास-विशेष, एक नरक-प्रदेश (ठा ६) । ४ वृत्त पुं [वर्त] नरकावास-विशेष (ठा ६) । ५ सिद्ध पुं [वशिष्ट] नरक प्रदेश-विशेष (ठा ६) ।

गिद्व वि [निर्दय] दया-हीन, करुणा-रहित, निष्ठुर (पएह १, १, गउड) ।

जैन ग्रन्थाश-विशेष, पाँचवाँ-पूर्व (सम २६) ।
 °माथार देखो °थार (पडि) । °व, वत वि
 [°वत्] ज्ञानी, विद्वान् (पि ३४८, आचा,
 अन्नु ४६) । °वि वि [°वित्] ज्ञान-वेत्ता
 (आचा) । °थार पु [°ाचार] ज्ञान-विषयक
 शालोक विधि (राज) । °वरण न [°वरण]
 ज्ञान का आच्छादक कर्म (घण ४४) ।
 °वरणिल्ल न [°वरणीय] अनन्तर उक्त
 अर्थ (सम ६६, औप) ।

गाणक } न [दे] सिक्का, मुद्रा (मृच्छ १७,
 गाणग } राज) ।

गाणत न [नानात्व] भेद, विशेष, अन्तर
 (श्रौष ६१८) ।

गाणता ली [नानाता] ऊपर देखो (विसे
 २१६१) ।

गाणा अ [नाना] अनेक, जुदा-जुदा (उवा,
 भग, सुर १, ८६) । °विह वि [°विध] अनेक
 प्रकार का, विविध (जीव ३, सुर ४,
 २४५, द १३) ।

गाणि वि [ज्ञानिन्] ज्ञानी, जानकार, विद्वान्
 (आचा, उव) ।

गादिय देखो पाइय (कप्प) ।

गाभि पु [नाभि] १ स्वनाम ह्यात एक
 कुलकर पुरुष, भगवान् ऋषभदेव का पिता
 (सम १५०) । २ पेट का मध्य भाग । ३
 गाडी का एक अवयव (दस ७) । °नदण पु
 [°नन्दन] भगवान् ऋषभदेव (पउम ४, ६८) ।

गाम सक [नमय्] १ नमाना, नीचा
 करना । २ उपस्थित करना । ३ अर्पण
 करना । एामेइ (हेका ४६) । वक्क गामयत्
 (विसे २६६०) । सक गामित्ता (त्तिव १) ।

गाम पु [नाम] १ परिणाम, भाव (भग २५,
 ५) । २ नमन (विसे २१७६) ।

गाम अ [नाम] सभावना सूचक अव्यय (सूत्र
 १, १२, ३) ।

गाम अ [नाम] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
 सभावना (से ५, ४) । २ आमन्त्रण, सवोधन
 (सूह ३, ज १) । ३ प्रसिद्धि, ख्याति (कप्प) ।
 ४ अनुना, अनुमति (विसे) । ५—६ वाक्या-
 लकार पाद-भूति में भी इसका प्रयोग होता है
 (ठा ४, १, राज) ।

गाम न [नामन्] नाम, आख्या, अभिधान
 (विपा १, १, विसे २५) । °कम्म न
 [°कर्मन्] कर्म-विशेष, विचित्र परिणाम का
 कारण-भूत कर्म (स ६७) । °धिज्ज, °धेज्ज
 °धेय न [°धेय] नाम, आख्या (कप्प, सम
 ७१, पउम ४, ८०) । °पुर न [°पुर] एक
 विद्याधर-नगर (इक) । °मुद्दा ली [°मुद्दा]
 नाम से अकित मुद्रा (पउम ५, ३२) ।
 °सच्च वि [°सत्य] नाम-मात्र से सच्चा, नाम-
 धारी (ठा १०) । °हेअ देखो °धेय (पउम
 २०, १७६, स्पन् ४३) ।

गामण न [नमन] नमाना, नीचा करना
 (विसे ३००८) ।

गाममतक्ख पु [दे] अपराध, गुनाह (गउड) ।
 गामागोत्त न [नामगोत्र] १ यथार्थ नाम ।
 २ न.म तथा गोत्र (सुज १६) ।

गामिय वि [नमित] नमाया हुआ (साधं
 ८०) ।

गामिय न [नामिक] वाचक शब्द, पद (विसे
 १००३) ।

गामुक्कसिअ } न [दे] कार्यं, काम, काज
 गामोक्कसिअ } (हे २, १७४, दे ४, २५) ।
 गाय वि [दे] गविष्ठ, अभिमानी (दे ४, २३) ।
 गाय देखो गाग (काप्र ७७७, कप्प, औप,
 गउड, वजा १४, सुपा ६३६, पउम २१,
 ४६) ।

गाय पु [नाद] शब्द, आवाज, ध्वनि (औप,
 पउम २२, ३८, स २१३) ।

गाय पुं [न्याय] १ अक्षपाद—प्रणीत न्याय
 शास्त्र (सुख ३, १, धर्मवि ३८) । २ सामयिक
 आदि षट्-कर्म (अणु ३१) ।

गाय पु [नाद] अनुनासिक वर्ण, अर्धचन्द्राकार
 अक्षर-विशेष (सिदि १६६) ।

गाय वि [न्याय्य] न्याय-युक्त (सूत्र १, १३,
 ६) ।

गाय पु [न्याय] १ न्याय, नीति (औप,
 स १५६, आचा) । २ उपपत्ति, प्रमाण
 (पचा ४, विसे) । °कारि वि [°कारिन्]
 न्याय-कर्त्ता (आह १) °गर वि [°कर]
 १ न्याय-कर्त्ता । पु न्यायाधीश (आ १४) ।
 °ण वि [°ज्ञ] न्याय का जानकार (उप
 ३४६) ।

गाय पु [नाक] स्वर्ण, देव-लोक (पाप्र) ।

गाय पुं [ज्ञात] १ भगवान् महावीर (सूत्र १,
 २, २, ३१) । २ वि. प्रसिद्ध (सूत्र १, ६, २१) ।

गाय वि [ज्ञात] १ जाना हुआ, विदित (उव,
 सुर २, ३६) । २ ज्ञाति संबन्धी, सगा, एवं
 विरादरी का (कप्प, आउ ६) । ३ वश-
 विशेष मे उत्पन्न (श्रौप) । ४ पुं वश-
 विशेष (ठा ६) । ५ क्षत्रिय विशेष (सूत्र १,
 ६, कप्प) । ६ न उदाहरण, दृष्टान्त (उव,
 सुपा १२८) । °कुमार पु [°कुमार] ज्ञात-
 वशीय राज-पुत्र (राया १, ८) । °कुल न
 [°कुल] वश-विशेष (परह १, ३) । °कुल-
 चद पु [°कुलचन्द्र] भगवान् श्री महावीर
 (आचा) । कुलनदण पुं [कुलनन्दन]
 भगवान् श्री महावीर (परह १, १) । °पुत्त पुं
 [°पुत्र] भगवान् श्री महावीर (आचा) ।
 °मुणि पु [°मुनि] भगवान् श्री महावीर
 (परह २, १) । °विहि पुत्री [°विधि] माता
 या पिता के द्वारा सवन्ध, सवन्धिपन (वव
 ६) । °सड न [°पण्ड] उद्यान-विशेष, जहाँ
 भगवान् श्रीमहावीर देव ने दीक्षा ली थी
 (आचा २, ३, १) । °सुय पु [°सुत]
 भगवान् श्रीमहावीर । °सुय न [°श्रुत]
 'ज्ञाताधर्मकथा' नामक जैन आगम-ग्रन्थ (राया
 २, १) । °धम्मकहा ली [°धर्मकथा]
 जैन आगम-ग्रन्थ-विशेष (सम १))

गायग पु [नायक] हार के बीच की मणि,
 सुमेरु (स ६८६) ।

गायग पु [नायक] नेता, मुखिया, अग्रग्रा
 (उप ६४८ टी; कप्प, सम १, सुपा २२) ।

गायत्त पु [दे] समुद्र मार्ग से व्यापार करने-
 वाला वणिक्, 'पवहण्णवाणिज्जपरा सुहंकरा'
 आसि नाम नायत्ता' (उप ५६७ टी) ।

गायर देखो गागर (महा, सुपा १८८) ।

गायरिय देखो गागरिय (सुर १४, १३३) ।
 ली °या (भवि) ।

गायरी देखो गागरी (भवि) ।

गायव्व देखो गा = ज्ञा ।

गार पु [नार] चतुर्थं नरक-पृथिवी का एक
 प्रस्तर (इक) ।

गारइअ वि [नारिक] १ नरक पृथिवी,
 उत्पन्न, नारकी । २ पु नरक का जीव (हे
 १, ७६) ।

गिद्धूय देखो गिद्धूय (जीव ३)।

गिद्धोअ वि [निधोत्ति] १ घोया हुआ (गा ६३६, से १४, १६, स १६१)। २ निर्मल, स्वच्छ, 'निद्धोयउदयकक्षिर—'(वज्जा १५८)।

गिद्धोभास वि [स्निग्धावभास] चमकीला, स्निग्धपन से चमकता (शाया १, १—पत्र ४)। गिधण न [निधन] विनाश, मृत्यु, मौत (नाट—मुच्छ २५२)।

गिधत्त वि [निधत्त] निकाचित, निश्चित (ठा ८—पत्र ४३४)।

गिधत्त न [निधत्त] १ कर्मों का एक तरह का अवस्थान, वधे हुए कर्मों का तप्त सूची-समूह की तरह अवस्थान। २ वि निविड भाव को प्राप्त कर्म-मुद्गल (ठा ४, २)।

गिधत्ति वी [निधत्ति] करण-विरोध, जिससे कर्म-मुद्गल निविड रूप से व्यवस्थापित होता है (पंच ५)।

गिधम्म देखो गिद्धम्म = निर्धम्मं (श्लोक ३७ भा)।

गिघाण देखो गिहाण (नाट—महावीर १२०)। गिधूय देखो गिद्धुण।

गिघ्राम सक [निर् + नमय्] नमाना, झुकाना। गिघ्रामप (सुम १, १३, १५)।

गिघ्नीय देखो गिष्णीय (धर्मवि ५)।

गिपट्ट न [दे] गाढ (प्राकृ ३८)। गिपडिय वि [निपतित्] नीचे गिरा हुआ (सण)।

गिपा सक [नि + पा] पीना। संकृ निपीय (सम्मत्त २३०)।

गिपाइ वि [निपात्तिन्] १ नीचे गिरने-वाला। २ सामने गिरनेवाला (सुम १, ५)।

गिपूर पुं [निपूर] नन्दीवृक्ष (आचा २, १, ८, ३)।

गिप्पअप देखो गिप्पकप (से ६, ७८)।

गिप्पएसस वि [निष्प्रदेश] १ प्रदेश-रहित। २ पुं परमाणु (विसे)।

गिप्पक वि [निष्पङ्क] कर्दम-रहित, पाक-रहित (सम १३७, भग)।

गिप्पक्रिय वि [निष्पङ्किन्] पक-रहित (भवि)।

गिप्पख सक [निर् + पक्षय्] पक्ष-रहित

करना, पक्ष तोड़ना। गिप्पखेत्ति (विपा १, ८)।

गिप्पंद वि [निष्पन्द] चलन-रहित, स्थिर (से २, ४२)।

गिप्पकप वि [निष्प्रकम्प] कम्प-रहित, स्थिर (सम १०६, परह २, ४)।

गिप्पवख वि [निष्पक्ष] पक्ष-रहित (गड्ड)।

गिप्पगल वि [निष्प्रगल] टपकनेवाला, भरने-वाला, बूनेवाला (श्लोक ३५, श्लोक ३४ भा)।

गिप्पच्चवाय वि [निष्प्रत्यवाय] १ प्रत्यवाय-रहित, निर्विघ्न (श्लोक २४ टी)। २ निर्दोष, विशुद्ध, पवित्र, 'गिप्पच्चवायचरणा कज्ज साहंति' (सार्ध ११७)।

गिप्पच्छिम वि [निष्प्रश्चिम] १ अन्तिय, अन्त का (से १२, २१)। २ परिशिष्ट, अवशिष्ट, बाकी का, 'गिप्पच्छिमाई असई दुक्खालोभाइ महुअपुप्फाइ' (गा १०४)।

गिप्पट्ट वि [दे] अधिक (दे ४, ३१)।

गिप्पट्ट वि [नि स्पष्ट] अस्पष्ट, अव्यक्त। 'पसिणवागारण वि [प्रश्नव्याकरण] निरुत्तर किया हुआ (भग १५, शाया १, ५, उवा)।

गिप्पट्ट वि [नि स्पष्ट] नहीं छूआ हुआ। 'पसिणवागारण वि [प्रश्नव्याकरण] निरुत्तर किया हुआ (भग १५)।

गिप्पडिक्कम्म वि [निष्प्रतिकर्मन्] सस्कार-रहित, परिष्कार-वर्जित, मलिन (सम ५७, सुपा ४८५)।

गिप्पडियार वि [निष्प्रतिकार] निरुपाय, प्रतिकार-वर्जित (परह २, ४)।

गिप्पणिअ वि [दे] जल-धौत, पानी से धोया हुआ (पड्)।

गिप्पण्ण देखो गिप्पण्ण (गा ६८६)।

गिप्पण्ण वि [निष्प्रज्ञ] बुद्धि-रहित, प्रज्ञा-शून्य (उप १७६ टी)।

गिप्पत्त वि [निष्पत्र] पत्र-रहित (गा ८८७, वव १)।

गिप्पत्ति } देखो गिप्पत्ति (पचा १८, ससि गिप्पत्ति } ६)।

गिप्पन्न देखो गिप्पण्ण (कुप्र २०८)।

गिप्पभ वि [निष्प्रभ] निस्तेज, फीका (महा)।

गिप्परिगह वि [निष्परिग्रह] परिग्रह रहित (उत्त १४)।

गिप्पलिवयण वि [निष्प्रतिवचन] निरुत्तर, उत्तर देने में असमर्थ (सम ६०)।

गिप्पसर वि [निष्प्रसर] प्रसर-रहित, जिसका फैलाव न हो (पि ३०५)।

गिप्पह देखो गिप्पभ (से १०, १२, हे २, ५३)।

गिप्पाइय देखो गिप्पाइय (कुप्र १६६)।

गिप्पाण वि [निष्प्राण] प्राण-रहित, निर्जीव (शाया १, २)।

गिप्पाल देखो गेपाल (धर्मवि ६६)।

गिप्पाव पु [निष्पाप] एक दिन का उपवास (सबोध ५८)।

गिप्पाव देखो गिप्पाव (पि ३०५)।

गिप्पिच्छ वि [दे] १ ऋजु, सरल। २ दृढ़, मजबूत (दे ४, ४६)।

गिप्पिट्ट वि [निष्पिट्ट] पीसा हुआ (दे ८, २०, सण)।

गिप्पिट्ट न [निष्पिट्ट] वेपथ की समाप्ति (पिड ६०२)।

गिप्पिवास वि [निष्पिपास] पिपासा रहित, तुष्या-वर्जित, नि स्पृह (परह १, १, शाया १, १, सुर १, १३)।

गिप्पिवासा वी [निष्पिपासा] स्पृहा का अभाव (वि १८)।

गिप्पिह वि [नि स्पृह] स्पृहा-रहित, निर्गम (हे २, २३, उप ३२० टी)।

गिप्पीडिअ वि [निष्पीडित्] दबाया हुआ (से ५, २५)।

गिप्पीलण न [निष्पीडन] दबाव, दवाना (आचा)।

गिप्पीलिय देखो गिप्पीडिअ। २ निचोडा हुआ, 'निष्पीलियाइ पोत्ताइ' (स ३३२)।

गिप्पुसण न [निष्पुंसन] १ पौष्ण, मार्जन। २ अभिमर्दन (हे २, ५३)।

गिप्पुन्न वि [निष्पुण्य] पुण्य-रहित (कुप्र ३१८)।

गिप्पुन्नग वि [निष्पुण्यक] १ पुण्य रहित। २ पु, स्वनाम-ख्यात एक कुलपुत्र (सुपा ५४५)।

गिप्पुल्लाय पु [निष्पुल्लायक] आगामी चौबीसी में होनेवाले एक स्वनाम-ख्यात जिन-देव (उप १५३)।

णासग वि [नाशक] नाश करनेवाला (सुर ३, ५८) ।

णासण न [नाशन] १ पलायन, अपक्रमण भागना (धर्म २) । २ वि नाश करनेवाला (से ३, २७, गण २२) । स्त्री णी (से ३, २७) ।

णासण न [न्यासन] समापन, रखना, व्यवस्थापन (अणु) ।

णासणा स्त्री [नासना] विनाश (विसे ६३६) ।

णासव सक [नाशय] नाश करना । णासवइ (हे ४, ३१) ।

णासविय वि [नाशित] नष्ट किया हुआ, भगाया हुआ (उप ३५७ टी, कुमा) ।

णासा स्त्री [नासा] नाक, घ्राणेन्द्रिय (गा २२, आचा, कुमा) ।

णासि वि [नाशिन्] विनश्वर, नष्ट होनेवाला (विसे १६८१) ।

णासिक देखो णासिक (एदि १६५) ।

णासिक न [नासिक्य] दक्षिण भारत का एक स्वनाम प्रसिद्ध नगर, जो आजकल भी 'नासिक' नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ शूपरुखा की नाक फटो थी, पचवटी (उप वृ २१३, १४१ टी) ।

णासिगा स्त्री [नासिका] नाक, घ्राणेन्द्रिय (महा) ।

णासिय वि [नाशित] नष्ट किया हुआ (महा) ।

णासियञ्ज देखो णास = नश् ।

णासिर वि [नाशित] नष्ट होनेवाला, विनश्वर (कुमा) ।

णासीक्य वि [न्यासीकृत] घरोहर या प्रमानत रूप से रखा हुआ (आ १४) ।

णासेक देखो णासिक (उप १४१) ।

णाह पु [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमा, प्रासु १२, ६६) ।

णाहट्ट पु [नाहट्ट] एक राजा का नाम (ली १५) ।

णाहल पु [लाहल] म्लेच्छ की एक जाति (हे १, २५६, कुमा) ।

णाहि देखो णाभि (कुमा, कप्पु) । °रुह पु [°रुह] मूला, चतुर्मुख (अणु ३६) ।

णाहि (प्रप) अ [नाहि] नहीं, नाही (हे ४, ४१६, कुमा, अवि) ।

णाहिणाम न [दे] वितान के बीच की रस्सी (दे ४, २४) ।

णाहिय वि [नारितक] १ परलोक आदि को नहीं माननेवाला । २ पु नास्तिक मत का प्रवर्तक । °वाइ, °वादि वि [°वादिन्] नास्तिक मत का अनुयायी (सुर ६, २०, स १६४) । °वाय पु [°वाद] नास्तिक दर्शन (गच्छ २) ।

णाहिञ्छेअ } पु [दे] जघन, कटी के
णाहीए-विञ्छेअ } नीच का भाग (दे ४, २४) ।

णि अ [नि] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ निश्चय (उत्त १) । २ नियतपन, नियम (ठा १०) । ३ आधिक्य, अतिशय (उत्त १, विपा १, ६) । ४ अन्वोभाग, नीचे (सण) । ५ नित्यपन । ६ सशय । ७ आदर । ८ उपरम, विराम । ९ अन्तर्भाव, समावेश । १० समीपता, निकटता । ११ क्षेप, निन्दा । १२ बन्धन । १३ निषेध । १४ दान । १५ राशि, समूह । १६ मुक्ति, मोक्ष (हे २, २१७, २१८) । १७ अभिमुखता, समुखता (सूत्र १, ६) । १८ अल्पता, लघुता (परह १, ४) ।

णि अ [निर्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ निश्चय (उत्त ६) । २ आधिक्य, अतिशय । (उत्त १) । ३ प्रतिषेध, निषेध (सम १३७, सुपा १६८) । ४ बहिर्भाव । ५ निर्गमन, निष्क्रमण (ठा ३, १, सुपा १३) ।

णिअ सक [दृश] देखना । णिअइ (पहू, हे ४, १८१) । वक्त्र णिअंत (कुमा, महा, सुपा २६६) । सक्र णिएउ (अवि) ।

णिअ वि [निज] आत्मीय, स्वकीय (गा १५०, कुमा, सुपा ११) ।

णिअ वि [नीत] ले जाया गया (से ५, ६, सण) ।

णिअ वि [नीच] नीच, जघन्य, निकृष्ट (कम्म ३, ३) ।

णिअ देखो णिव (सूत्र २, ६, ४५) ।

णिअइ स्त्री [निहति] माया, कपट, छल, धोखा (परह १, २) ।

णिअइ स्त्री [नियत्ति] १ नियतपन, भवितव्यता, होनी, भाग्य, नियमितता (सूत्र १, १,

३) । २ अवश्य-भावितता (ठा ४, ५, सूत्र १, १, २) । °पव्वय पु [°पर्वत] पर्वत, विशेष (जीव ३) । °वाइ वि [°वादिन्] 'सब कुछ भवितव्यता के अनुसार ही हुआ करता है, प्रयत्न वगैरह अकिञ्चिदकर हे' एसा मानना, भाग्यवादी या दैववादी (रा १) ।

णिअटिअ वि [नियन्त्रित] १ नियमित । २ न प्रत्याख्यान-विशेष, हूँ ३ गा रागी से, अमुक दिन मे अमुक तप गंगा का किया हुआ नियम (पव ५) ।

णिअटिय वि [नियन्त्रित] १ नियमित जकडा हुआ । २ न अवश्य-करता, निगम विशेष (ठा १०) ।

णिअठ वि [निर्भन्थ] १ घन जित जैनमुनि, सयत्त, यति (अ. ठ. ५, ३) । ३ जित भगवान् (सू १, ८)

णिअठ पु [निर्भन्थ] भगवान् वृ ४४२) ।

णिअठि देखो णिग्गथी । °पुत्त पु [] १ एक विद्याघर-पुत्र, जिसका हूँ सत्यकि था (ठा १०) । २ एक जैनमुनि, भगवान् महावीर का शिष्य था (अग ५)

णिअठिय वि [नेर्भन्थिक] १ निर्भन्थिक २ जित देव-सदन्धी । स्त्री. 'या, 'एसा णियठिया' (सूत्र १, ६) ।

णिअठी देखो णिग्गथी (ठा ६) ।

णिअत वि [नियत्त] स्थिर (सूत्र १, १२) ।

णिअत वि [निर्यत्त] बाहर निक (सम्मत्त १५६) ।

णिअतिय वि [नियन्त्रित] समयित, ज हुआ, बँधा हुआ (महा, सण) ।

णिअधण न [दे] वक्र, कपडा (दे ४, २८)

णिअव पु [नितम्ब] १ पर्वत का एक भाग पर्वत का बसांत स्थान (शोध ४०) । २, की कमर का पीछला भाग, कमर कर्न का भाग, चूतड (कुमा, गडड) । ३ मूल (से ८, १०६) । ४ कटी-प्रदेश, कमर (ज ४,

णिअविणी स्त्री [नितम्बिनी] १ सुत, नितम्बवाली स्त्री । २ स्त्री, महिला (कप्पु, पात्र, सुपा ५३८) ।

गिन्मच्छिअ वि [निर्भेरित] अपमानित, श्रवहेलित (गा ८६८, सुपा ४०७) ।
 गिन्मभय वि [निर्भय] भय-रहित, निडर (खाया १, ४, महा) ।
 गिन्मभर सक [निर् + भृ] भरना, पूर्ण करना । कवक गिन्मभरंत (से १५, ७४) ।
 गिन्मभर वि [निर्भर] १ पूर्ण, भरपूर (से १०, १७) । २ व्यापक, फैलनेवाला (कुपा) । ३ क्रि वि पूर्ण रूप से 'भयो य एिन्मभर वरिसद' (भावम) ।
 गिन्मिभद सक [निर् + भिद] तोड़ना, विदारण करना । कवक गिन्मिभज्जत, गिन्मिभज्जमाण (से १४, २६, भग १८, २, जीव ३) ।
 गिन्मिभच्च वि [निर्भीक] भय-रहित, निडर (सुपा १४३, २४६, २७५) ।
 गिन्मिभज्जत } देखो गिन्मिभद ।
 गिन्मिभज्जमाण }
 पिन्मिभट्ट वि [दे] आक्रान्त (भवि) ।
 गिन्मिभण वि [निर्मिन्न] १ विदारित, तोड़ा हुआ (पात्र) । २ विद्ध (से ५, ३४) ।
 गिन्मिभोअ वि [निर्भीक] भय-रहित, निडर (से १३, ७०) ।
 गिन्मिभुग वि [दे] भग्न, खरिडत (दे ४, ३२) ।
 गिन्मिभुय देखो गिन्मिभुअ (वेदय ५८६) ।
 गिन्मिभेय पुं [निर्भेद] भेदन, विदारण (सुपा ३२७) ।
 गिन्मिभेयण न [निर्भेदन] ऊपर देखो (सुर २, ६९) ।
 गिन्मिभेरिय वि [निर्भेरित] प्रसारित, फैलाया हुआ (उत्त १२, २६) ।
 गिन्मि देखो गिह = निम (उव, ज ३) ।
 गिन्मिच्छण देखो गिन्मिच्छण (पिंड २१०) ।
 गिन्मिण पु [निभङ्ग] भङ्गन, खरडन, चोटन (राज) ।
 गिन्मिण सक [नि + भालम्] देखना, निरीक्षण करना । गिन्मिणलेहि (भावम) । कवक गिन्मिणल्यंत (उप पु ५३) । कवक गिन्मिणल्लज्जत (उप ६८६ टी) ।
 गिन्मिणिय वि [निभालिन] दृष्ट, निरीक्षित (उप पु ५८) ।

गिन्मिअ } देखो गिहुअ (परह २, ३, गा गिन्मिअ } ८००) ।
 गिन्मिअ सक [निर् + भेल्य] बाहर करना । कवक गिन्मिअल्लत (परह १, ३—पत्र ४५) ।
 गिन्मिअण न [दे] गृह, घर, स्थान (कप्प) ।
 गिन्मिअ सक [नि + अस] स्थापन करना । गिन्मिअ (हे ४, १६६, पड) । गिन्मिअ (पि ११८) । कवक गिन्मिअत (से १, ४१) ।
 गिन्मिअत सक [नि + मन्त्रय] निमन्त्रण देना, न्यौता देना । गिन्मिअत (महा) । कवक गिन्मिअतमाण (भाचा २, २, ३) । सङ्क गिन्मिअतऊण (महा) ।
 गिन्मिअतण न [निमन्त्रण] निमन्त्रण, न्यौता, बुलावा (उप पु ११३) ।
 गिन्मिअतणा स्त्री [निमन्त्रणा] ऊपर देखो (पंचा १२) ।
 गिन्मिअतिय वि [निमन्त्रित] जिसको न्यौता दिया गया हो वह (महा) ।
 गिन्मिअग वि [निमग्न] डूबा हुआ (पउम १०६, ४, शीप) । °जला स्त्री [°जला] नदी-विशेष (ज ३) ।
 गिन्मिअज्ज सक [नि + मस्ज] डूबना, निमज्जन करना । गिन्मिअज्ज (पि ११८) । कवक गिन्मिअज्जंत (गा ६०६, सुपा ६४) ।
 गिन्मिअज्जण वि [निमज्जरु] १ निमज्जन करनेवाला । पुं वानप्रस्थ्याश्रमो तापस-विशेष, जो स्नान के लिए थोड़े समय तक जलाशय में निमग्न रहते हैं (शीप) ।
 गिन्मिअज्जण न [निमज्जन] डूबना, जल-प्रवेश (सुपा ३५४) ।
 गिन्मिअणिय देखो गिन्मिअणिय = निर्माणिन (भवि) ।
 गिन्मिअ सक [नि + युज्] जोड़ना । गिन्मिअ (प्राक ६७) ।
 गिन्मिअ वि [न्यस्त] स्थापित, निहित (कुपा, से १, ४२, स ६, ७६०, मण) ।
 गिन्मिअ वि [दे] आघ्रात, सूँघा हुआ (पड) ।
 गिन्मिअण देखो गिन्मिअण = निर्माण (कम्म १, २५) ।
 गिन्मिअत न [निमित्त] १ कारण, हेतु (प्रास १०४) । २ कारण-विशेष, सहकारि-कारण

(सुप्र २, २) । ३ शास्त्र-विशेष, भविष्य आदि जानने का एक शास्त्र (शोष १६, भा ८) । ४ अतीन्द्रिय ज्ञान में कारण-भूत पदार्थ (ठा ८) । ५ जैन साधुओं की भिक्षा का एक दोष (ठा ३, ४) । °पिंड पु [°पिण्ड] भविष्य आदि बतला कर प्राप्त की हुई भिक्षा (भाचा २, १, ६) ।
 गिन्मिअतिय वि [निमित्तिय] निमित्त-शास्त्र का जानकार (कुप्र ३७८) ।
 गिन्मिअतिय देखो गेमिअतिय (सुपा ४०२) ।
 गिन्मिअण सक [नि + मील्] श्रांख भूँदना, श्रांख मोचना । गिन्मिअण (हे ४, २३२) ।
 गिन्मिअण वि [निमीलित] जिसने नेत्र बंद किया हो, मुद्रित-नेत्र (से ६, ६१, ११, ५०) ।
 गिन्मिअणण देखो गिन्मीलण (राज) ।
 गिन्मिअण सक [नि + मिप्] श्रांख भूँदना । निमिअण (सु ५३) ।
 गिन्मिअण पु [निमिअण] नेत्र-सकोच, शक्ति-मीलन, पलक मारने भरका समय (गा ३८५, सुपा २१६, गडड) ।
 गिन्मीलण न [निमीलन] शक्ति-सकोच (गा ३६७, सुप्र १, ५, १, १२ टी) ।
 गिन्मीलिय वि [निमीलित] मुद्रित (नेत्र) (गा १३३, से ६, ८६, महा) ।
 गिन्मीस न [निमिअण] एक विद्यावर-नगर (इक) ।
 गिन्मीस सक [नि + मा] स्थापन करना । गिन्मीस (गडड) ।
 गिन्मीसण न [दे] स्थान, जगह (दे ४, ३७) ।
 गिन्मीसण स्त्री [दे] दन्त-मास (दे ४, ३०) । स्त्री °ला (दे ४, ३०) ।
 गिन्मीस पु [निमिअण] निमीलन, शक्ति-सकोच, पलक का गिरना, पलक (भा १६, उव) ।
 गिन्मीसि देखो गिन्मीस ।
 गिन्मीसि वि [निमिअण] श्रांख भूँदनेवाला (सुपा ४४) ।
 गिन्मीस सक [निर् + मा] बनाना, निर्माण करना । गिन्मीस (पड) । गिन्मीस (धम्म १२ टी) । कवक गिन्मीसअत (नाट—मालती ५४) ।
 गिन्मीस पु [निम] जमीन से ऊँचा निरतता प्रदेश (राय २७) ।

गिअया स्त्री [नियता] जम्बू-वृक्ष विशेष, जिससे यह जम्बू-द्वीप कहलाता है (इक) ।
 गिअर पु [निकर] राशि, समूह, जल्था, डेर (गा ५६६, पात्र गउड) ।
 गिअरण न [दे] दण्ड, शिक्षा (स ४५६) ।
 गिअरिअ वि [दे] राशि रूप में स्थित (दे ४, ३८) ।
 गिअल न [दे] नूपुर, पैजनी या पावजेब, स्त्री का पादाभरण-विशेष (दे ४, २८) ।
 गिअल पु [निगड] देवी, स.कल (से ३, ८, विपा १, ६) । देखो गिगल ।
 गिअलाइअ वि [निगडित] साकल से गिअलाविअ नियन्त्रित, जकडा हुआ (गा गिअलिअ) ४५४, ५००, पात्र, गउड, से ५, ४८) ।
 गिअल्ल पु [दे नियल्ल] ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) ।
 गिअल्ल वि [निज] स्वकीय, आत्मीय (महा) ।
 गिअस देखो गिअस । नियसइ (सुपा ६२) ।
 गिअसण देखो गिअसण (हेका ५६, काप्र २०१) ।
 गिअसिय वि [निवसित] परिहित, पहना हुआ (सुपा १५३) ।
 गिअह देखो गिवह (नाट—मालती १३८) ।
 गिआ स्त्री [निदा] प्राणि-हिंसा (पिड १०३) ।
 गिआ^० देखो गिअय = (दे) । ^०वाइ वि [वादिम्] नित्यवादी, पदार्थ को नित्य माननेवाला (ठा ८) ।
 गिआइय देखो गिआइय (सूत्र १, ६) ।
 गिआग पु [नियाग] १ नियत योग । २ निश्चित पूजा । ३ मोक्ष, मुक्ति (आचा, सूत्र १, १, २) । ४ न आमान्यण देकर जो भिन्ना दी जाय वह (दस ३) ।
 गिआग देखो पाय = न्याय (आचा) ।
 गिआण न [निदान] १ आरम्भ, सावद्य व्यापार (सूत्र १, १०, १) । २ रोग-कारण, रोग की पहचान (पिड ४५६) ।
 गिआण न [निदान] १ कारण, हेतु, अहो अप्प नियाण महतो विवाप्पो' (स ३६०, पात्र, खाय १, १३) । २ किसी व्रतानुष्ठान की फल-प्राप्ति का अभिलाष

सकल्प-विशेष (आ ३३, ठा १०) । ३ मूल कारण (आचा) । ^०कड वि [कृत्] जिसने अपने अनुष्ठान के फल का अभिलाष किया हो वह (सम १५३) । ^०कारि वि [कारिन्] वही अनन्तर उक्त अर्थ (ठा ६) ।
 गिआण न [निपान] कूप या तालाब के पास पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ जल-कुण्ड, आहाव, हौदी, चरही, 'पइमवण पइहट्ट पइमग पइसह पइनियाण' (उप ७२८ टी) ।
 गिआणिआ स्त्री [दे] खराब तृणों का उन्मूलन (दे ४, ३५) ।
 गिआम देखो गिअम = नियमय् । सक उवसग्गा गिआमित्ता आओक्खाए परिक्वए' (सूत्र १, ३, ३) ।
 गिआम देखो गिआम (सूत्र १, १०, ८) ।
 गिआमग } वि [नियामक] नियम-कर्ता,
 गिआमय } नियन्ता (सुपा ३१६) । २ निश्चायक, विनिगमक (विसे ३४७०, स १७०) ।
 गिआमिअ वि [नियमित] नियम में रखा हुआ, नियन्त्रित (स २६३) ।
 गिआय पुं [नियाग] प्रशस्त धर्म (सूत्र १, १, २, २०) ।
 गिआर सक [काणेक्षित कृ] कानी नजर से देखना । एिआरइ (हे ४, ६६) ।
 गिआरिअ वि [काणेक्षितकृत] १ कानी नजर से देखा हुआ, आधी नजर से देखा हुआ । २ न आधी नजर से निरीक्षण (कुमा) ।
 गिआह पु [निदाय] १ ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु । २ उष्ण, धर्म, गरमी (गउड) ।
 गिइअ वि [नैत्यिक] नित्य का, 'निइए पिडे दिज्जइ' (आचा २, १, १, ६) ।
 गिइग } वि [दे नित्य, नैत्यिक] नित्य,
 गिइय } शाश्वत, अविनश्य (परह २, ४—पत्र १४१, सूत्र १, १, ४, २, ४, एदि, आचा, सम १३२) ।
 गिइव वि [निष्कृप] निर्दय, कठोर (प्राक २६) ।
 गिउअ वि [निवृत्त] परिवेष्टित, परीक्षित (हे १, १३१) ।
 गिउअ वि [नियुत] सुसगत, सुच्छिष्ट (खाया १, १८) ।

गिउचिअ वि [निकुञ्चित] सकुचित, सकुचा हुआ, थोडा मुडा हुआ (गा ५६३, से ६, १६, पात्र, स ३३५) ।
 गिउज सक [नि + युज्] जोडना, समुत्त करना, किसी कार्य में लगाना । कर्म गिउज-जोगसि (पि ५४६) । वकृ गिउजमाण (सूत्र १, १०) । सकृ निर्जंजिऊण, निउजिय (स १०४, महा) । कृ गिउजियन्व, गिउत्तन्व (उप पृ १०, कुमा) ।
 गिउज पु [निकुञ्ज] १ गहन, लता आदि में निविड स्थान (कुमा, गा २१७) । २ गह्वर (दे ६, १२३) ।
 गिउभ पु [निकुम्भ] कुम्भकरण का एक पुत्र (से १२, ६२) ।
 गिउभिला स्त्री [निकुम्भिला] यज्ञ-स्थान (से १५, ३६) ।
 गिउक्क वि [दे] तृणोक्त, मौन रहनेवाला (दे ४, २७, पात्र) ।
 गिउक्कण पु [दे] १ वायस, काक, कौआ । २ वि मूक, वाक्-शक्ति से हीन (दे ४, ५१) ।
 गिउज्ज न [न्युज्ज] आसन-विशेष (एदि १२८ टी) ।
 गिउज्जम वि [निरुद्यम] उद्यम-रहित, आलसी (सूत्र २, २) ।
 गिउड्ड अक [मस्जू, नि + बुड्] मज्जन करना, डूबना । गिउड्ड (हे १, १०१) । वकृ गिउड्डमाण (कुमा) ।
 गिउड्ड वि [मग्न, निबुद्धित] डूबा हुआ, निमग्न (से १०, १५, १५, ७४) ।
 गिउण वि [निपुण] १ दक्ष, चतुर, कुशल (पात्र, स्वप्न ५३, प्रासू ११, जो ६) । २ सूक्ष्म, जो सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सके (जो २, राय) । ३ क्रिंवि दक्षता से, चतुराई से, कुशलता से (जो ३) ।
 गिउण वि [निपुण] १ नियत गुणवाला । २ निश्चित गुण से युक्त (राज) । ३ सुनिश्चित, विनिर्णीत (पचा ४) ।
 गिउणिय वि [नैपुणिक] निपुण, दक्ष, चतुर (ठा ६) ।
 गिउत्त वि [नियुक्त] १ व्यापारित, कार्य में लगाया हुआ (पचा ८) । २ निबद्ध (विसे ३८८) ।

गिम्मोडण न [निर्मोडन] विनाश (मै ६१) ।
गिम्नोल्ल वि [निर्मूल्य] मूल्य-रहित
(कुमा) ।

गिम्मोह वि [निर्मोह] मोह-रहित (कुमा,
आ १२) ।

गिरड स्त्री [निर्गृहीति] मूल-नक्षत्र का अघि-
घायक देव (आ २, ३) ।

गिरइयार वि [निरितचार] अतिचार-रहित,
दूषण-वर्जित (सुपा १००) ।

गिरइसय वि [निरतिशय] अत्यन्त, सर्व-
धिक (काल) ।

गिरईआर देखो गिरइयार (सुपा १००,
उपण १८) ।

गिरकुस वि [निरकुशा] अकुश-रहित, स्व-
च्छन्दी (कुमा, आ २८) ।

गिरगण वि [निरङ्गण] निर्लेप, लेप-रहित
(श्रौप, उव, याया १, ११—पत्र १७१) ।

गिरगी स्त्री [दे] सिर का अवयुञ्ज, धूँधट
(दे ४, ३१, २, २०) ।

गिरंजण वि [निरञ्जन] निर्लेप, लेप-रहित
(स ५८२, कप्प) ।

गिरंतय वि [निरन्तक] अन्त रहित (उप
१०३१ टी) ।

गिरतर वि [निरन्तर] अन्तर-रहित, व्यव-
धान-रहित (गड्ड, हे १, १४) ।

गिरतराय वि [निरन्तराय] १ निर्विघ्न,
निर्वाच । २ व्यवधान-रहित, सतत, 'धम्म
करेह विमलं च निरन्तराय' (पउम ४४,
६७) ।

गिरतरिय वि [निरन्तरित] अन्तर रहित,
व्यवधान-रहित (जीव ३) ।

गिरध वि [नीरध] छिन्न-रहित (वक्र ६७) ।

गिरवर वि [निरम्बर] वक्र-रहित, नरन
(आवम) ।

गिरभा स्त्री [निरम्भा] एक इन्द्राणी, वैरोचन
इन्द्र को एक अग्र-महिषी (ठा ५, १, इक) ।

गिरस वि [निरस] अश-रहित, अखण्ड,
सम्पूर्ण (विसे) ।

गिरहं वि [निरहस्] निर्मल, पवित्र, 'मढयं
च वाहिमो सो निरहसा तेण जलपवाहेण'
(धम्मवि १४६) ।

गिरक्क पु [दे] १ चोर, स्तेन । २ पृष्ठ,
पीठ । ३ वि स्थित (दे ४, ४६) ।

गिरक्किय वि [निराकृत] अपाकृत, निरस्त
(उत्त ६, ५६) ।

गिरक्ख सक [निर् + ईच्छ] निरीक्षण
करना, देखना । गिरक्खइ (हे ४, ४१८),
'तोवि ताव विट्ठीए गिरक्खिज्जा' (महा) ।

गिरक्खर वि [निरक्षर] मूर्ख, ज्ञान-रहित
(कप्प, वज्जा १५८) ।

गिरगार वि [निराकार] आकार-रहित,
'निरगारपच्चकखालोवि अरहंताईणमुज्झिया'
(सवोष ३८) ।

गिरगाल वि [निरगाल] १ रूकावट से रहित
(सुपा १६२, ४७१) । २ स्वच्छन्दी, स्वैरी,
निरकुश (पास) ।

गिरच्छण वि [निरर्चन] अर्चन-रहित
(उव) ।

गिरट्ट } वि [निरर्थ, क] १ निरर्थक,
गिरट्टुग } निष्प्रयोजन, निकम्मा (उत्त २०) ।
२ न, प्रयोजन का अभाव, 'गिरट्टुगम्मि
विरओ, मेहुणाओ सुसबुओ' (उत्त २, ४२) ।

गिरण वि [निर्गृहण] ऋण-रहित, करज से
मुक्त (सुपा ५६३, ५६६) ।

गिरणास देखो गिरिणास = नश । गिर-
णासइ (हे ४, १७८) ।

गिरणुकप वि [निरनुकम्प] अनुकम्पा-रहित,
निर्दय (याया १, २, वृह १) ।

गिरणुककोस वि [निरनुकोश] निर्दय,
दया-शून्य (याया १, २, प्रासू ६८) ।

गिरणुताव वि [निरनुताप] पश्चात्ताप-रहित
(याया १, २) ।

गिरणुतावि वि [निरनुतापिन्] पश्चात्ताप-
वर्जित (पव २७४) ।

गिरत्थ वि [निरस्त] अपास्त, निराकृत (वव
=) ।

गिरत्थय } वि [निरर्थ, क] अपार्थक, निकम्मा,
गिरत्थया } निष्प्रयोजन (दे ४, १६, पउम
गिरत्थय ६५, ४, पएह १, २, उव, स
४१) ।

गिरत्थय पु [निरन्वय] अन्वय-रहित (धम्मस
४६६) ।

गिरप्प अक [स्या] वैठना । गिरप्पइ (हे
४, १६) । भूका, गिरप्पीअ (कुमा) ।

गिरप्प पु [दे] १ पृष्ठ, पीठ । २ वि उद्वे-
ष्टित (दे ४, ४६) ।

गिरप्पण वि [निरात्मीय] अस्वकीय, पर-
कीय (कुप्र ८६) ।

गिरभिग्गह वि [निरभिग्रह] अभिग्रह-रहित
(आव ६) ।

गिरभिराम वि [निरभिराम] असुन्दर,
अन्नाह (पएह १, ३) ।

गिरभिलप्प वि [निरभिलाप्य] अनिर्वच-
नीय, वाणी से बतलाने को अशक्य (विसे
४८८) ।

गिरभिस्सग वि [निरभिषङ्ग] आसक्ति-
रहित, नि स्पृह (पत्रा २, ६) ।

गिरय पुं [निरय] १ नरक, पाप-भोग-स्थान
(ठा ४, १, आचा, सुपा १४०) । २ नरक-
स्थित जीव, नारक (ठा १०) 'पाल पु
[पाल] देव-विशेष (ठा ४, १) । 'वडिया
स्त्री [वडिक्का] १ जैन आगम-ग्रन्थ विशेष
(निर १, १) । २ नरक-विशेष (पएण २) ।

गिरय वि [निरत] असक्त, तत्पर, तल्लीन
(उप ६७६, उव, सुपा २६) ।

गिरय वि [नीरजस्] रजो-रहित, निर्मल
(भग, गा ८७८) ।

गिरव सक [वुमुह] खाने की इच्छा करना ।
गिरवइ (पड्) ।

गिरव सक [आ + क्षिपु] आक्षेप करना ।
गिरवइ (पड्) ।

गिरवइक्ख वि [निरपेक्ष] अपेक्षा रहित,
निरीह, नि स्पृह (विसे ७ टी) ।

गिरवकख वि [निरवकाहृक्ष] स्पृहा रहित,
नि स्पृह (श्रौप) ।

गिरवकंठि वि [निरवकाडिक्ख] नि स्पृह
(याया १, ६) ।

गिरवगाह वि [निरवगाह] अवगाहन-रहित
(पड्) ।

गिरवगह वि [निरवग्रह] निरकुश, स्व-
च्छन्दी, स्वैरी (पास) ।

गिरवच्च वि [निरपत्त] अपत्य-रहित, नि संतान
(भग, सम १५०) ।

गिरवज्ज वि [निरवज्ज] निर्दोष, विरुद्ध (धम
५, १, सुर ८, १८३) ।

गिर्जित सक [नि + कृत्] काटना, छेदना ।
 गिर्जितइ (पुष्प ३३७, उव) । गिर्जितए,
 (जा, काल) ।
 गिर्जितय वि [नि + कर्त्तक] काट डालनेवाला
 (काल) ।
 गिर्जित सक [नि + कृट्] १ कूटना । २
 मारना । गिर्जितइ, गिर्जितमि (उवा) ।
 गिर्जितय वि [नि + कृणित] टेढा किया हुआ,
 मर किया हुआ (दे १, ८८) ।
 गिर्जित पु [निकेत] गृह, आश्रय, निवास-
 नाला (शाया १, १६, उक्त २, आचा) ।
 गिर्जितण न [निकेतन] ऊपर देखो (सुर
 २, २१, महा) ।
 गिर्जित पु [निकोच] सकोच, सिमट (दे ७,
 २) ।
 गिर्जित वि [दे] मुनिमंल, सर्वथा मल-रहित
 (गा १, १) ।
 गिर्जित देखो गिर्जित = निष्क (प्राक् २१) ।
 गिर्जितअव वि [निष्कैतव] १ कपट-रहित,
 निष्ठा (कुमा) । २ कपट का अभाव,
 निष्ठापन (गा ८५) ।
 गिर्जितइ वि [निष्ककृट] १ आवरण-रहित
 (सुर) । २ उपघात-रहित (सम १३७) ।
 गिर्जितवि वि [निष्काडिक्ष्वत्] अशिलावा-
 रहित (उक्त १६, ३४) ।
 गिर्जितय न [निष्काडिक्ष्वत्] १ आकाशा-
 तः शून्य । २ दर्शनान्तर की अनिच्छा (उक्त
 २, पंड) ।
 गिर्जितय वि [निष्काडिक्ष्वत्, क] १
 शून्य-रहित । २ दर्शनान्तर के पक्षपात से
 रहित (सुम २, ७, औप, राय) ।
 गिर्जितय वि [निष्काञ्चन] सुवर्ण-रहित,
 शून्य-रहित, नि स्व, निर्वन (सुपा १६८) ।
 गिर्जितय वि [निष्कण्टक] कण्टक-रहित,
 शून्य-रहित, शून्य-रहित (सुपा २०८) ।
 गिर्जितय वि [निष्काण्ड] १ काण्ड रहित,
 शून्य-रहित, २ धवसर-रहित (गा ४६८) ।
 गिर्जितय वि [निष्कान्त] १ निर्गत, बाहर
 नो हुआ (मे १, ५६) । २ जिसने दीक्षा
 नो ले वह, गृहत्याग से निर्गत (आचा) ।
 गिर्जितय वि [निष्कान्तार] धरण्य से निर्गत,
 शून्य-रहित (ता २, १) ।

गिर्जितयि स्त्री [निष्कान्ति] निष्कमण, बाहर
 निकलना (प्राक् २१) ।
 गिर्जितयु वि [निष्कमिठ] बाहर निकलने-
 वाला (ठा ३, १) ।
 गिर्जित सक [नि + कन्द] उन्मूलन करना ।
 गिर्जितइ (सम्मत १७४) ।
 गिर्जितप वि [निष्कम्प] कम्प-रहित, स्थिर
 (हे २, ४, अमि २०१) ।
 गिर्जितज्ज वि [दे] अनवस्थित, चंचल (दे ४,
 ३३, पात्र) ।
 गिर्जितट्ट वि [निष्कट्ट] कृश, दुर्बल, क्षीण
 (ठा ४, ४—पत्र २७१) ।
 गिर्जितइ वि [दे] १ कठिन (दे ४, २६) ।
 २ पु निश्चय, निर्णय (पट्ट) ।
 गिर्जितडिडय वि [निष्कट्ट, निष्कर्षिन] बाहर
 खोचा हुआ, बाहर निकाला हुआ (स ६०,
 २६५) ।
 गिर्जितण वि [निष्कण] धान्य-कण-रहित,
 अत्यन्त गरीब (विपा १, ३) ।
 गिर्जितम अक [निर + क्रम्] १ बाहर
 निकलना । २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना ।
 गिर्जितमामि (पि ४८१) । वक्र गिर्जितमत
 (हेका ३३२, मुद्रा, ८२) ।
 गिर्जितम पु [निष्कम] नीचे देखो (नाट—
 मुद्रा २२४) ।
 गिर्जितमण न [निष्कमण] १ निर्गमन, बाहर
 निकलना (मुद्रा २२४) । २ दीक्षा, सन्यास
 (आचा) ।
 गिर्जितम्म वि [निष्कर्मच] कर्म-रहित, मुक्ति-
 प्राप्त, मुक्त (द्रव्य १४) ।
 गिर्जितम्म वि [निष्कर्मन्] १ कार्य रहित,
 निष्कम्मा (गा १६६) । २ मोक्ष, मुक्ति । ३
 संवर, कर्मों का निरोध, (आचा) ।
 गिर्जितय पु [निष्कय] १ बदला, उन्मूलन
 (सुपा ३४१, पत्रम ७, १२६) । २ मृति,
 वेतन, मजूरी (हे २, ४) ।
 गिर्जितरण न [निकरण] १ तिरस्कार । २
 परिभ्रम । ३ विनाश (सवोच १६) ।
 गिर्जितरण वि [निष्कसण] कसण-रहित,
 दया वञ्जित (नाट—मालती ३२) ।
 गिर्जितल वि [निष्कल] कला-रहित (सुपा १) ।

गिर्जितल वि [दे] पोलापन से रहित (सुपा १,
 मग १५) ।
 गिर्जितलंक वि [निष्कलङ्क] कलक-रहित,
 वेदाग (स ४१८, महा, सुपा २५३) ।
 गिर्जितलुण देखो गिर्जितसण (पणह १, १) ।
 गिर्जितलुस वि [निष्कलुष] १ निर्दोष, निर्मल ।
 २ निष्पद्रव, उपद्रव-रहित (से १२, ३४) ।
 गिर्जितवड वि [निष्कपट] कपट-रहित (उप
 पृ १६०) ।
 गिर्जितवय वि [निष्कवच] कवच-रहित, वर्म-
 वलित (ठा ४, २) ।
 गिर्जितस अक [निर + कस्] बाहर निक-
 लना । गिर्जितसे (सूत्र १, १४, ४) ।
 गिर्जितस सक [निर + कस्] निकासना,
 बाहर निकालना । कर्म गिर्जितसिज्जइ
 (उक्त १) ।
 गिर्जितसण न [निष्कसन] निर्गमन (राज) ।
 गिर्जितसाय वि [निष्कषाय] १ कषाय-रहित,
 क्रोधादि वञ्जित (आच) । २ पु भरत-जोन के
 एक भावी तीर्थंकर-देव (सम १५३) ।
 गिर्जिता स्त्री [नीका] वाम-नासिका (कुमा) ।
 गिर्जिताम वि [निष्काम] अशिलावा-रहित
 गिर्जितारण वि [निष्कारण] १ कारण-रहित,
 अहेतुक (सुर २, ३६) । २ क्वि विना
 कारण (आच ६) ।
 गिर्जितारण वि [निष्कारण] निष्पद्रव, 'नेस'
 निकारणो देहो' (पिंड ५१६) ।
 गिर्जितारणिय वि [निष्कारणिक] कारण-
 रहित, हेतु-शून्य (श्रोव ५) ।
 गिर्जितारिम वि [निष्कारण] विना कारण
 (आख्यानक ० २३ अधिकार, भावादेयाकथा,
 पद्य ५२५) ।
 गिर्जिताल सक [निर + कासय] बाहर
 निकालना । सक निष्कालेड (सुपा १३) ।
 गिर्जितालिअ देखो गिर्जितसिय (ती १५) ।
 गिर्जिताम पु [निष्काम] निकास, बाहर निकाल-
 ना (वर्मवि १४६) ।
 गिर्जितसिय वि [निष्कामित] बाहर निकाला
 हुआ (राज) ।
 गिर्जितचण वि [निष्कञ्चन] निर्घन, धर-
 रहित, नि स्व, गरीब (प्राचम) ।

गिरालवण वि [निरालम्बन] आलम्बन-रहित (श्रौप; शाया १, ६)।
 गिरालवण वि [निरालम्बन] आशया-रहित, संशय-रहित, प्रार्थना-रहित, इच्छारहित, अनुमान-रहित (आचा २, १६, १२)।
 गिरालय वि [निरालय] स्थान-रहित, एकत्र स्थिति नहीं करनेवाला (श्रौप)।
 गिरालोय वि [निरालोक] प्रकाश-रहित, (निर १, १)।
 गिरावकखि वि [निरवकाडिक्ष्व] आकाशा-रहित, नि स्पृह (सूत्र १, १०)।
 गिरावयवख वि [निरपेक्ष] अपेक्षा-रहित, निरोह (शाया १, १, ६, अत्त १४८)।
 गिरावरण वि [निरावरण] १ प्रतिबन्धक-रहित (श्रौप)। २ नग्न (सुर १४, १७८)।
 गिरावराह वि [निरपराध] अपराध-रहित (सुपा ४२३)।
 गिराविकख } देखो गिरावयवख, 'विसपुट्टु गिराविकख } गिराविकवा तरति ससार-कतार' (अत्त ४६, पञ्चम ६, ८, १००, ११)।
 गिरास वि [निराश] १ आशा-रहित, हताश (पञ्चम ४४, ५६, दे ४, ४८, सखि १६)। २ न. आशा का अभाव (परह १, ३)।
 गिरास वि [दे] नृसश, क्रूर (पङ्)।
 गिरासस वि [निराशस] आकाशा-रहित, निरोह (सुपा ६२१)।
 गिरासय वि [निराशय] निराधार (वज्जा १५२)।
 गिरासव वि [निराश्रव] आश्रव-रहित, कर्म-बन्धन के कारणों से रहित (परह २, ३)।
 गिरासस देखो गिरासस (आचा २, १६, ६)।
 गिराह वि [दे] निर्दय, निष्करुण (दे ४, ३७)।
 गिरिअ वि [दे] अवशेषित, बाकी रखा हुआ (दे ४, ४८)।
 गिरिइ देखो गिरइ (सुज्ज १०, १२)।
 गिरिक वि [दे] नत, नमा हुआ (दे ४, ३०)।
 गिरिगी [दे] देखो गीरगी (गड्ड)।
 गिरिधण वि [निरिन्धन] इन्धन-रहित (भग ७, १)।
 गिरिक्ख सक [निर् + ईक्ष्] देखना, अवलोकन करना। गिरिक्खइ, गिरिक्खए

(सण, महा)। वक्क गिरिक्खन, गिरि-क्खमाण (सण, उप २११ टी)। सक्क गिरिक्खिऊण (सण)। क्क गिरिक्ख-णिडज (कप्पु)।
 गिरिक्खण न [निरिक्षण] अवलोकन (गा १५०)।
 गिरिक्खणा छो [निरिक्षणा] अवलोकन, प्रतिलेखना (श्रौष ३)।
 गिरिक्खिअ वि [निरिक्षित] आलोकित, दृष्ट (कप्पु, पञ्चम ४८, ४८)।
 गिरिग्घ सक [नि + ली] १ आश्लेष करना, आलिंगन करना। २ अक छिपना। गिरिग्घइ (हे ४, ५५)।
 गिरिग्घिअ वि [निलीन] आच्छिष्ट, आलिंगित (कुमा)।
 गिरिण वि [निर्दृण] ऋण-मुक्त, उच्छ्रय (ठा ३, १, टी—पत्र १२०)।
 गिरिणास सक [गम्] गमन करना। गिरिणासइ (हे ४, १६२)।
 गिरिणास सक [पिप्] पीसना। गिरिणासइ (हे ४, १८५)।
 गिरिणास अक [नश] पलायन करना। भागना। गिरिणासइ (हे ४, १७८, कुमा)।
 गिरिणासिअ वि [गत] गया हुआ, यात (कुमा)।
 गिरिणासिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा)।
 गिरिणिज्ज सक [पिप्] पीसना। गिरि-णिज्जइ (हे ४, १८५)।
 गिरिणिज्जिअ वि [पिष्ट] पीसा हुआ (कुमा)।
 गिरिन्ति छो [निरिति] एक रात्रि का नाम (कप्पु)।
 गिरीह वि [निरिह] निष्काम, नि स्पृह (कुमा, ४२१)।
 गिरु (अप) अ निश्चित, नक्की (हे ४, ३४४, सुपा ८६, सण, भवि)।
 गिरुअ देखो गिरुज (विसे १५८५, सुपा ४४६)।
 गिरुकथ [निरुईजीकृत] नीरोग किया गया (उप ५६७ टी)।
 गिरुभ सक [नि + रुध्] निरोध करना। गिरुभइ (श्रौप)। कवक्क गिरुभमाण, गिरुभत (स ५३१, महा)। सक्क गिरु-

भइत्ता (सूत्र १, ४, २)। क्क गिरुभियव्व, गिरुद्धव्व (सुपा ४०४, विसे ३०८)।
 गिरुभण न [निरोधन] अटकाव, रूकावट (सूत्र १, ५, भवि)।
 गिरुकठ वि [निरुकण्ठ] उत्कण्ठा-रहित, निरुसाह (नाट)।
 गिरुग्घ देखो गिरिग्घ। गिरुग्घइ (पङ्)।
 गिरुच्चार वि [निरुच्चार] १ उच्चार—पुरी-पोत्संग के लिए लोगों के निर्गमन से वर्जित (शाया १, ८—पत्र १४६)। २ पाखाना जाने से जो रोका गया हो (परह १, ३)।
 गिरुच्छव वि [निरुत्सव] उत्सव-रहित (अभि १८६)।
 गिरुच्छाह वि [निरुत्साह] उत्साह-हीन (से १४, ३५)।
 गिरुज वि [निरुज] १ रोग-रहित। २ न. रोग का अभाव। 'सिख न [शिरस] एक प्रकार की तपश्चर्या (पत्र २७१)।
 गिरुज्जम वि [निरुज्जम] उद्यम रहित, आलसी (उव, स ३१०, सुपा ३८४)।
 गिरुट्टाइ वि [निरुत्थायिन्] नहीं उठनेवाला (उत्त १, ३०)।
 निरुत्त वि [निरुत्त] १ उक्त, कथित (सत्त ७१)। २ न निश्चित उक्ति (अपु)। ३ व्युत्पत्ति। (विसे २, ६६३)। ४ वेदाङ्ग शास्त्र-विशेष, जिसमें वैदिक शब्दों को व्याख्या है (श्रौप)।
 गिरुत्त वि [निरुत्त] १ अनुक्त, अकथित, दृष्टान्त 'किन्तु निरुत्तो भावो परस्स नजइ कविसेण' (सिरि ८४६)। २ व्युत्पत्ति-श्रुत (सिरि ३१)।
 गिरुत्त किवि [दे] १ निश्चित, नक्की, चोक्षस (दे ४, ३०, पञ्चम ३५, ३२, कुमा, (सण, भवि), 'तहवि हु मरइ निरुत्त पुरिसो संपत्थिए काले' (पञ्चम ११, ६१)। २ वि निश्चित, चिन्ता रहित (कुमा)।
 गिरुत्तत्त वि [निरुत्तत्त] विशेष ताप-श्रुत, सतप्त (उव)।
 गिरुत्तम वि [निरुत्तम] अत्यन्त श्रेष्ठ (काव)।
 गिरुत्तर वि [निरुत्तर] उत्तर-रहित किया हुआ, परास्त (सुर १२, ६६)।
 गिरुत्ति छो [निरुत्ति] व्युत्पत्ति (विसे ६६२)।

गिकित्त सक [नि + कृत] काटना, छेदना ।
एकित्तइ (पुष्प ३३७, उव) । एकित्तए,
(उव, काल) ।

गिकित्तय वि [निकर्तक] काट डालनेवाला
(काल) ।

गिकुट्ट सक [नि + कुट्ट] १ कूटना । २
नाटना । एकुट्टेइ, एकुट्टेमि (उवा) ।

गिकुणिय वि [निकूणित] टेढा किया हुआ,
वक्र किया हुआ (दे १, ८८) ।

गिकेत्त पु [निकेत] गृह, आश्रय, निवास-
स्वाम (राया १, १६, उत २, आचा) ।

गिकेण न [निकेतन] ऊपर देखो (सुर
२, २१, महा) ।

गिकेत्त पु [निकोच] सकोच, सिमट (दे ७,
१) ।

गिकेत्त वि [दे] सुनिर्मल, सर्वथा मल-रहित
(एया १, १) ।

गिकेत्त देखो गिकख = निष्क (प्राक् २१) ।

गिकेत्तअव वि [निष्कैतव] १ कपट-रहित,
निर्मा (कुमा) । २ कपट का अभाव,
निष्कैतपन (गा ८५) ।

गिकेत्त वि [निष्कैत्त] १ आवरण-रहित
(पुप) । २ उपधात-रहित (सम १३७) ।

गिकेत्त वि [निष्काडिक्षन्] अभिलाषा-
रहित (उत १९, ३४) ।

गिकेत्तय न [निष्काडिक्षत] १ आकाक्षा
का अभाव । २ दर्शान्तर की अनिच्छा (उत
२, पड) ।

गिकेत्तय वि [निष्काडिक्षत, क] १
आकाक्षा-रहित । २ दर्शान्तर के पक्षपात से
रहित (सूत्र २, ७, औप, राय) ।

गिकेत्तय वि [निष्काञ्चन] सुवर्ण-रहित,
धन-रहित, नि स्व, निर्धन (सुपा १६८) ।

गिकेत्तय वि [निष्कण्टक] कण्टक-रहित,
वातागृह, शत्रु-रहित (सुपा २०८) ।

गिकेत्तय वि [निष्कण्ड] १ काण्ड रहित,
वजित, २ अवसर-रहित (गा ४६८) ।

गिकेत्तय वि [निष्कान्त] १ निर्गत, बाहर
जा हुआ (से १, ५६) । २ जिसने दीक्षा
नीचे गृह, गृहस्थाश्रम से निर्गत (आचा) ।

गिकेत्तय वि [निष्कान्तार] अरण्य से निर्गत,
(टा ३, १) ।

गिकेत्तयि स्त्री [निष्कान्ति] निष्कमण, बाहर
निकलना (प्राक् २१) ।

गिकेत्तयि वि [निष्कमिठ्] बाहर निकलने-
वाला (टा ३, १) ।

गिकेत्तय सक [नि + कन्ट] उन्मूलन करना ।
निकेत्तइ (सम्मत १७४) ।

गिकेत्तय वि [निष्कम्प] कम्प-रहित, स्थिर
(हे २, ४, अभि २०१) ।

गिकेत्तय वि [दे] अनवस्थित, चंचल (दे ४,
३३, पात्र) ।

गिकेत्तय वि [निष्कट्ट] कृश, दुर्बल, क्षीण
(टा ४, ४—पत्र २७१) ।

गिकेत्तय वि [दे] १ कठिन (दे ४, २९) ।
२ पु निश्चय, निर्णय (पड) ।

गिकेत्तयि वि [निष्कृष्ट, निष्कृषिन्] बाहर
खोचा हुआ, बाहर निकाला हुआ (स ६०,
२१५) ।

गिकेत्तय वि [निष्कृण] धान्य-करण-रहित,
अत्यन्त गरीब (विपा १, ३) ।

गिकेत्तय अक [निर् + क्रम्] १ बाहर
निकलना । २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना ।
एककमामि (पि ४८१) । वक्र गिकेत्तय
(हेका ३३२, मुद्रा, ८२) ।

गिकेत्तय पु [निष्क्रम] नीचे देखो (नाट—
मुद्रा २२४) ।

गिकेत्तय न [निष्क्रमण] १ निर्गमन, बाहर
निकलना (मुद्रा २२४) । २ दीक्षा, सन्यास
(आचा) ।

गिकेत्तय वि [निष्क्रमन्] कर्म-रहित, मुक्ति-
प्राप्त, मुक्त (द्रव्य १४) ।

गिकेत्तय वि [निष्क्रमन्] १ कार्य-रहित,
निकम्मा (गा १६९) । २ मोक्ष, मुक्ति । ३
सवर, कर्मों का निरोध, (आचा) ।

गिकेत्तय पु [निष्क्रम्य] १ बदला, उन्मूलन
(सुपा ३४१, पचम ७, १२६) । २ श्रुति,
वेतन, मजूरी (हे २, ४) ।

गिकेत्तय न [निकरण] १ तिरस्कार । २
परिभव । ३ विनाश (सबोध १६) ।

गिकेत्तय वि [निष्करुण] करुणा-रहित,
दया वर्जित (नाट—मालती ३२) ।

गिकेत्तय वि [निष्कल] कला-रहित (सुपा १) ।

गिकेत्तय वि [दे] पोलापन से रहित (सुपा १,
भग १५) ।

गिकेत्तय वि [निष्कलङ्क] कलक-रहित,
वेदांग (स ४१८, महा, सुपा २५३) ।

गिकेत्तय देखो गिकेरुण (परह १, १) ।

गिकेत्तयस वि [निष्कलुप] १ निर्दोष, निर्मल ।
२ निरुपद्रव, उपद्रव-रहित (से १२, ३४) ।

गिकेत्तय वि [निष्कपट] कपट-रहित (उप
पु १६०) ।

गिकेत्तय वि [निष्कवच] कवच-रहित, वर्म-
वर्जित (टा ४, २) ।

गिकेत्तय अक [निर् + कस्] बाहर निक-
लना । एकसे (सूत्र १, १४, ४) ।

गिकेत्तय सक [निर + कस्] निकासना,
बाहर निकालना । कर्म गिकेत्तयिज्जइ
(उत १) ।

गिकेत्तय न [निष्कसन] निर्गमन (राज) ।

गिकेत्तय वि [निष्कपाय] १ कपाय-रहित,
क्रोधादि वर्जित (आच) । २ पु भरत-क्षेत्र के
एक भावी तीर्थकर-देव (सम १५३) ।

गिकेत्तय स्त्री [नीका] वाम-नासिका (कुमा) ।

गिकेत्तय वि [निष्काम] अभिलाषा-रहित

गिकेत्तय वि [निष्कारण] १ कारण-रहित,
अहेतुक (सुर २, ३६) । २ क्रि. वि. विना
कारण (आव ६) ।

गिकेत्तय वि [निष्कारण] निरुपद्रव, 'निस
निकारणो दहो' (पिड ५१९) ।

गिकेत्तय वि [निष्कारणिक] कारण-
रहित, हेतु-रहित (श्रव ५) ।

गिकेत्तय वि [निष्कारण] विना कारण
(आख्यानक ० २३ अधिकार, भावादेयाकथा,
पच ५२५) ।

गिकेत्तय सक [निर् + कासय] बाहर
निकालना । सक निकालेड (सुपा १३) ।

गिकेत्तय देखो गिकेत्तयि (ती १५) ।

गिकेत्तय पु [निष्कास] निकास, बाहर निकाल-
ना (धर्मवि १४९) ।

गिकेत्तय वि [निष्कासित] बाहर निकाला
हुआ (राज) ।

गिकेत्तय वि [निष्कञ्चन] निर्धन, धर-
रहित, नि स्व, गरीब (आचम) ।

गिलित्त, गिलिज्जमाण, गिलीअंत, गिली-
अमाण (कप्प, सूअ २, २, कुमा, उप ४७४)।
गिलीइर वि [निलेत्त] आश्लेष करनेवाला,
मेंटनेवाला (कुमा)।
गिलुक्क देखो गिलीअ । गिलुक्कइ (हे ४,
५५, षट्) । वक्क गिलुक्कत (कुमा)।
गिलुक्क सक [तुड्] तोडना । गिलुक्कइ
(हे ४, ११६)।
गिलुक्क वि [दे. निलीन] १ निलीन, खूव
छिपा हुआ, प्रच्छन्न, गुप्त, तिरोहित (शाया
१, ८, से १५, २, गा ६४, सुर ६, ५, उव
सुपा ६४०)। २ लीन, आसक्त (विवे ६०)।
गिलुक्कण न [निलयन] छिपना (कुप्र २५२)।
गिलुक्क [दे] देखो गिलुक्क (दे ४, ३१)।
गिलुक्कण न [निर्लाच्छन] शरीर के किसी
अवयव का छेदन (उवा, पडि)।
गिलुक्कइ देखो गेलुक्कइ (पि ६६)।
गिलुक्कण वि [निर्लाक्षण] १ मूल, वेवकूप
(उप ७६७ टी)। २ अपलक्षणवाला, खराब
(आ १२)।
गिलुज्ज वि [निर्लेज्ज] लज्जा-रहित (हे २,
१६७, २००)।
गिलुज्जिम पुज्जी [निर्लाज्जिमन्] निर्लेज्जपन,
वेशरमी (हे १, ३५)। ज्जी मा (हे १,
३५)।
गिलुस अक [उत् + लस्] उल्लसना,
विकसना । गिलुसइ (हे ४, २०२)।
गिलुसिज वि [उल्लसित] उल्लास-भुक्त,
विकसित (कुमा)।
गिलुसिअ वि [दे] निर्गत, नि सत, निर्यात
(दे ४, ३६)।
गिलुलिअ वि [निर्लीलित] नि सारित,
बाहर निकाला हुआ (शाया १, १, ८—
पत्र १३३, सुर १२, २३५, महा)।
गिलुइ सक [निर् + लिख्] घिसना ।
गिलुइहण्जा (आचा २, ३, २, ३)।
गिलुलुक्क सक [मुच्] छोडना, त्याग
करना । गिलुलुक्कइ (हे ४, ६१)।
गिलुलुक्कइ वि [मुक्क] त्यक्त, छोडा हुआ
(कुमा)।
गिलुलुक्क वि [निर्लुक्क] विनाशित (विक्र २५)।

गिल्लूर सक [छिद्] छेदन करना, काटना ।
गिल्लूरइ (हे ४, १२४) । गिल्लूरइ (आरा
६८)।
गिल्लूरण न [छेदन] छेद, विच्छेद (कुमा)।
गिल्लूरिय वि [छिन्न] काटा हुआ,
विच्छिन्न, 'आवत्तविद्दुमाहयनिल्लूरियदविय-
संखउल' (पउम ८, २५८)।
गिल्लेव वि [निर्लेप] लेप-रहित (विसे ३०८३)।
गिल्लेवण पु [निर्लेपक] रजक, घोबी (आच्
४)।
गिल्लेवण न [निर्लेपन] १ मल को दूर करना
(वव १)। २ वि निर्लेप, लेप-रहित (ओध
१६ भा)। ३ काल पु [काल] वह काल,
जिस समय नरक में एक भी नारक जीव न
हो (भग)।
गिल्लेविअ वि [निर्लेपित] १ लेप-रहित
किया हुआ । २ विलकुल खूट गया हुआ
(भग)।
गिल्लेहण न [निर्लेखन] उद्वर्तन, पोखना
(आचा २, ३, २)।
गिल्लोभ } वि [निर्लोभ] लोभ-रहित, अ-
गिल्लोह } लुब्ध (सुपा ३६१, आ १२,
भवि)।
गिव पु [नृप] राजा, नरेश (कुमा, रयण
४७)। १ तणय वि [सवन्धिन्] राज-
संबन्धी, राजकीय (सुपा ५३६)।
गिवइ पु [नृपति] ऊपर देखो (ठा ३, १,
पउम ३०, ६)। १ मगण पु [मार्ग] राज-
मार्ग, जाहिर रास्ता (पउम ७६, १६)।
गिवइअ वि [निपतित] १ नीचे गिरा हुआ
(शाया १, ७)। २ एक प्रकार का विप
(ठा ४, ४)।
गिवइत्तु वि [निपतित्] नीचे गिरनेवाला
(ठा ४, ४)।
गिवच्छण न [दे] अवतारण, उतारना (दे
४, ४०)।
गिवज्ज अक [निर + पन्] निष्पन्न होना,
नीपजना, बनना । गिवज्जइ (पड्)।
गिवज्ज अक [नि + सद्] वैठना । गिवज्जसु
(स ५०६)। वक्क. गिवज्जमाण (स ५०३)।
प्रयो. गिवज्जवेइ (निर १, १)।

गिवज्ज अक [नि + सद्] सोना । गिवज्ज
(उत्त २७, ५)।
गिवट्ट सक [नि + वर्तय्] निवृत्त करना।
गिवट्टणजा (सूअ १, १०, २१)।
गिवट्ट अक [नि + वृत्] १ निवृत्त होना,
लौटना, हटना । २ रुकना । वक्क गिवट्ट
(सुपा १६२)।
गिवट्ट वि [निवृत्त] १ निवृत्त, हटा हुआ,
प्रवृत्ति-विमुख । २ न निवृत्ति (हे ४, ३३२)।
गिवट्टण न [निवर्तन] १ निवृत्ति, प्रवृत्ति-
निरोध । २ जहाँ रास्ता बन्द होता हो वह
स्थान (शाया १, २—पत्र ७६)।
गिवट्टिम वि [निर्वर्तित] पका हुआ, फलित,
सिद्ध (आचा २, ४, २, ३)।
गिवड अक [नि + पत्] नीचे पडना,
नीचे गिरना । गिवडइ (उव, पड्,
महा)। वक्क गिवडत, गिवडमाण (गा
३४, सुर ३, १२७)। सक गिवडिअण,
गिवडिअ (वस ३, महा)।
गिवडण न [निपतन] अघ पतन (राज)।
गिवडिअ वि [निपतित] नीचे गिरा हुआ
(से १४, ३४, गा २३४, उप पु २६)।
गिवडिअ वि [निपतित्] नीचे गिरनेवाला
(सुपा ४६, सण)।
गिवण वि [निषण] १ वैठा हुआ (अहा,
सथा ६५, ७३)। २ पु कायोत्सर्ग विशेष,
जिसमें धर्म आदि किसी प्रकार का ध्यान न
किया जाता हो वह कायोत्सर्ग (आव ५)।
१ गिवण पु [निपण] जिसमें आत और
रौद्र ध्यान किया जाय वह कायोत्सर्ग (आव
५)।
गिवणुस्सिय पु [निपणोत्सत्] कायोत्सर्ग-
विशेष, जिसमें धर्म ध्यान और शुभ ध्यान
किया जाता हो वह कायोत्सर्ग (आव ५)।
गिवत्त देखो गिवट्ट = नि + वृत् । वक्क
गिवत्तमाण (वव १)। क गिवत्तणीअ
(नाट—शुकु १०८)। प्रयो गिवत्तवेमि
(पि ५५२)।
गिवत्त देखो गिवट्ट = निवृत्त (पड्, कप्प)।
गिवत्तण देखो गिवट्टण (महा हे २, ३०,
कुमा)।

पिगडिय वि [निगडित] नियन्त्रित (हस्मीर ३०) ।
 पिगड पु [दे] धर्म, धाम, गरमी (दे ४, २७) ।
 पिगण वि [नम्र] नगा, वज्र-रहित (सूत्र १, २, १, ६) ।
 पिगद् सक [नि + गद्] १ कहना । २ पढना, अभ्यास करना । वक्त्र पिगद्माण (विसे ८५०) ।
 पिगम पु [निगम] १ प्रकृष्ट बोध (विसे १२८७) । २ व्यापार-प्रधान स्थान, जहाँ व्यापारी, विशेष संख्या में रहते हो ऐसा शहर आदि (परह १, ३, औप, आचा) । ३ व्यापारि-समूह (सम ५१) ।
 पिगमण न [निगमन] अनुमान प्रमाण का एक अवयव, उपसहार (दसनि १) ।
 पिगमिअ वि [दे] निवासित (षड्) ।
 पिगर पु [निकर] समूह, राशि, जल्था (विपा १, ६, उवा) ।
 पिगरण न [निकरण] कारण, हेतु (भग ७, ७) ।
 पिगरिय वि [निकरित] सर्वथा शोधित (परह १, ४) ।
 पिगल देखो पिअल । २ वेडी के आकार का सौवर्ण आभूषण-विशेष (औप) ।
 पिगलिय देखो पिगरिय (ज २) ।
 पिगाम देखो पिकाम = निकाम (पिंड ६४५) ।
 पिगाम न [निकाम] प्रत्यन्त, अतिशय (ठा ५, २, आ १६) ।
 पिगास पु [निकर्ष] परस्पर सयोजन, मिलाना, जोड (भग २५, ७) ।
 पिगिडिभ्य देखो पिगिण्ह ।
 पिगिट्टु देखो पिक्किट्टु (सुपा १८३) ।
 पिगिण वि [नग्न] नग्न, नगा (आचा २, २, ३, ७, १, पि १३३) ।
 पिगिणिण न [नाग्न्य] नंगापन, नग्नता (उत्त ५, २१, सुख ५, २१) ।
 पिगिण्ह सक [नि + ग्रह] १ निग्रह करना, दण्ड करना, शिक्षा करना । २ रोकना । ३ अक्र वैठना, स्थिति करना ।

सकृ पिगिडिभ्य, पिगिण्ड (ठा ७, कप्प, राज) । कृ पिगिण्हियव्व (उप पृ २३) ।
 पिगुज अक्र [नि + गुञ्] १ घूँजना, अव्यक्त शब्द करना । २ नीचे नमना । वक्त्र पिगुजमाण (राया १, ६—पत्र १५७) ।
 पिगुज देखो पिउञ्ज = निकुञ्ज (आवम) ।
 पिगुण वि [निगुण] गुण-रहित (परह १, २) ।
 पिगुरव्व देखो पिउरव्व (परह १, ४) ।
 पिगूढ वि [निगूढ] १ गुप्त, प्रच्छन्न (कप्प) । २ मौनी, मौन रहनेवाला (राज) ।
 पिगूह सक [नि + गुह] छिपाना, गोपन करना । पिगूहइ (उव, महा) । पिगूहति (सट्ठि ३२) । सकृ पिगूह्ण (स ३३५) ।
 पिगूहण न [निगूहन] गोपन, छिपाना (पचा १५) ।
 पिगूहिअ वि [निगूहित] छिपाया हुआ, गोपित (सुपा ५१८) ।
 पिगोअ पु [निगोद] अनन्त जीवो का एक साधारण शरीर-विशेष (भग, परण १) ।
 ०जीव पु [०जीव] निगोद का जीव (भग २५, ६, कम्म ४, ८५) ।
 पिग्ग देखो पिग्गम = निर् + गम् । वक्त्र पिग्गत (भवि) ।
 पिग्गठिद (शौ) वि [निग्रथित] युष्फित, ग्रथित (पि ५१२) ।
 पिग्गतु } देखो पिग्गम = निर् + गम् ।
 पिग्गतूण }
 पिग्गथ देखो पिअठ (औप, घोष ३२८, प्रासू १३६, ठा ५, ३) ।
 पिग्गथ वि [नैर्ग्रन्थ] निग्रन्थ-सम्बन्धी (राया १, १३, उवा) ।
 पिग्गथी वी [निर्ग्रन्थी] जैन साध्वी (राया १, १, १४, उवा, कप्प, औप) ।
 पिग्गच्छ } अक्र [निर् + गम्] बाहर
 पिग्गम } निकलना । पिग्गच्छइ (उवा, कप्प) । वक्त्र पिग्गच्छंत, पिग्गच्छमाण, पिग्गममाण (सुपा ३३०, राया १, १, सुपा ३५६) । सकृ पिग्गच्छत्ता, पिग्गतूण (कप्प, स १७) । हेक्क पिग्गंतु (उप ७२८ टी) ।
 पिग्गम पु [निर्गम] १ उत्पत्ति, जन्म (विसे १५३६) । २ बाहर निकलना (से ६, ३६,

उप पृ ३३२) । ३ द्वार, दरवाजा (से २) । ४ बाहर जाने का रास्ता (से ८, ३३ ५ प्रस्थान, प्रयाण (वृह १) ।
 पिग्गमण न [निर्गमन] १ नि सरण, वा निकलना (राया १, २, सुपा ३३२, भग, २ पलायन, भाग जाना । ३ अपक्रम (वव १) ।
 पिग्गमिअ वि [निर्गमित] बाहर निकला हुआ, निस्सारित (आ १६) ।
 पिग्गमिय वि [निर्गमित] गमाया हुआ पसार किया हुआ (सम्मत्त १२३) ।
 पिग्गय वि [निर्गत] नि छत, बाहर निकला हुआ (विसे १५४०, उवा) । ०जस [०यशास्] जिसका यश बाहर में फैल हो (राया १, १८) । ०मोअ वि [०मोद] जिसकी सुगन्ध खूब फैली हो (पात्र) ।
 पिग्गय वि [निर्गज] हाथी-रहित (भवि) ।
 पिग्गह देखो पिगिण्ह । कृ पिग्गहियव्व (सुपा ५८०) ।
 पिग्गह पुं [निग्रह] १ दण्ड, शिक्षा (प्रासू १७०, आव ६) । २ निरोध, अवरोध, रुकावट (भग ७, ६) । ३ वश करना, काबू में रखना, नियमन (प्रासू ४८) । ०ट्ठाण न [०स्थान] न्याय-शास्त्र-प्रसद्धि प्रतिज्ञा-हानि आदि पराजय-स्थान (ठा १, सूत्र १, १२) ।
 पिग्गहण न [निग्रहण] १ निग्रह, शिक्षा, दण्ड (सुर १६, ७) । २ दमन, नियमन, नियन्त्रण (प्रासू १३२) ।
 पिग्गहिय वि [निगुहीत] १ जिसका निग्रह किया गया हो वह (स ११५) । २ पराजित पराभूत (आवम) ।
 पिग्गहीय देखो पिग्गहिय (सुख १, १) ।
 पिग्गा वी [दे] हृदि, हृदयी (दे ४, २५) ।
 पिग्गाल पुन [निर्गाल] निचोड, रस, 'सौस-घडीनिग्गाल' (तडु ४१) ।
 पिग्गालिय वि [निर्गालित] गलाया हुआ (उप पृ ८४) ।
 पिग्गाहि वि [निग्गाहिन] निग्रह करनेवाला (उत्त २५, २) ।
 पिग्गिण वि [दे. निर्गीण] १ निर्गत, बाहर निकला हुआ (दे ४, ३६, पात्र) । २ वान्त, वमन किया हुआ (से ५, २६) ।

णिवुडिदं श्री [निवृद्धि] १ वृद्धि का अभाव
(अ २, ३) । २ दिन की छोटाई (भग) ।
णिवुण देखो णिवण (अच्छ ६६) ।
णिवुत्त देखो णिवट्ट = निवृत्त (स ५८८) ।
णिवुदिदं श्री [निवृत्ति] परिवेष्टन (प्राक् १२) ।
णिवूढ देखो णिवूढ (सूत्र २, ७, ३८) ।
णिवेअ सक [नि + वेदय्] १ सम्मान-पूर्वक
ज्ञापन करना, अर्ज करना । २ अर्पण करना ।
३ मालूम करना । कर्म णिवेअइइ (निवृ १) ।
सक णिवेअइऊण (स ५६६) । हेऊ णिवेअइ
(पंचा १५) । क णिवेयणीअ (स १२०) ।
णिवेअग वि [निवेदक] सम्मान-पूर्वक ज्ञापन
करनेवाला, प्रार्थी (सुपा २६८) ।
णिवेअण } न [निवेदन] १ सम्मान-पूर्वक
णिवेअणाय } ज्ञापन, दिनय (पंचा १, निवृ
११) । २ नैवेद्य, देवता को अर्पित अन्न आदि
(पञ्च ३२, ८३) ।
णिवेअणा श्री [निवेदना] ऊपर देखो
(आया १, ५) । ० पिण्ड पुं [० पिण्ड]
देवता को अर्पित अन्न आदि, नैवेद्य (निवृ
११) ।
णिवेअय देखो णिवेअग (सुपा २२५, स
५१६) ।
णिवेइय वि [निवेदित] सम्मान-पूर्वक ज्ञापित
(महा, भवि) ।
णिवेइत्तअ वि [निवेदयिच्] निवेदन
करनेवाला (अभि १३६) ।
णिवेस सक [नि + वेशय्] स्थापना
करना, बैठाना । णिवेसइ, णिवेसेइ (सण,
कप्प) । सक णिवेसइत्ता, णिवेसिउ
णिवेसिऊण, णिवेसित्ता, णिवेसिय
(उत्त ३२, महा, सण, कप्प, महा) । क
णिवेसियण (सुपा ३६४) ।
णिवेस पुं [निवेश] १ स्थापन, आवाहन
(अ ६, उप पृ २३०) । २ प्रवेश (निवृ ४) ।
३ आवास-स्थान, डेरा (वृह १) ।
णिवेस पु [वृपेश] १ महापु राजा, चक्रवर्ती
राजा (सुपा ४६३) ।
णिवेसण न [निवेशन] १ स्थान, बैठाना
(भावा) । २ एक ही दरवाजेवाले अनेक गृह
(भाव ४) ।

णिवेसण न [निवेशन] गृह, घर (उत्त
१३, १८) ।
णिवेसाविय वि [निवेशित] बैठाना हुआ
(महा) ।
णिव्व न [नीव्र] छदि, पटल-प्राप्त (दे ४,
४८, पाष) ।
णिव्व न [नीव्र] छप्पर के ऊपर का खपरैल
(एदि १५६) ।
णिव्व न [दे] १ ककुद, चिह्न । २ व्याज,
वहाना (दे ४, ४८) ।
णिव्वकर वि [दे] परिहास-रहित, सत्य
(कुष १६७) ।
णिव्वकल वि [निर्वकल] वकल-रहित,
(पि ६२) ।
णिव्वट्ट देखो णिव्वत्त = निर + वत्तय् ।
सक णिव्वट्टित्ता (अ २, ४) ।
णिव्वट्ट (अप) देखो णिव्वट्ट (हे ४, ४२२ टि) ।
णिव्वट्टग वि [निव्वर्तक] बनानेवाला, कर्ता
(भाव ४) ।
णिव्वट्टिम देखो णिव्वट्टिम (दस ७, ३३) ।
णिव्वट्टिय वि [निर्वर्तित] निष्पादित,
बनाया हुआ (आवा २, ४, २) ।
णिव्वड सक [युच्] दुख को छोड़ना ।
णिव्वडइ (पड) ।
णिव्वड अक [भू] १ पृथक् होना, जुदा
होना । २ स्पष्ट होना । णिव्वडइ (हे ४,
६२) ।
णिव्वड देखो णिव्वड = निर + पद (सुपा
१२२) ।
णिव्वडिअ वि [भूत्] १ पृथक्-भूत, जो
जुदा हुआ हो (से ६, ८८) । २ स्पष्टीभूत,
जो व्यक्त हुआ हो (सुर ७, १०४) ।
णिव्वडिअ वि [निष्पन्न] सिद्ध, कृत, निवृत्त
(पाष), 'सुकुलुपत्तो य युणल्लुया य सम्मं
इमीए णिव्वडिया' (सुपा १२२) ।
णिव्वड वि [दे] नग्न, नगा (दे ४, २८) ।
णिव्वण वि [निव्वर्ण] नग्न-रहित, क्षत-
वजित, बिना घाव का (आया १, ३, औप) ।
णिव्वण सक [निर + वणय्] १ श्लाघा
करना, प्रशंसा करना । २ देखना । वक
णिव्वणत्त (से ३, ४४, उप १०३१ टी,
महा) ।

णिव्वत्त सक [निर + वत्तय्] बनाना,
करना, मिद करना । णिव्वत्तेइ (महा) ।
सक णिव्वत्तिऊण, णिव्वत्तेऊण (मवा) ।
णिव्वत्त सक [निर + वत्तय्] गोल
बनाना, बतुल करना । कवक णिव्वत्त-
ऊणमाण (भग) ।
णिव्वत्त वि [निर्वत्त] निष्पन्न, रचित,
निर्मित (महा, औप) ।
णिव्वत्त वि [निर्वत्त] बनाने योग्य, साध्य
(प्राक् २०) ।
णिव्वत्तण न [निर्वत्तन] निष्पत्ति, रचना,
बनावट (उप पृ १८६) । ० णिव्वत्तणिया,
० णिव्वत्तणिया श्री [० णिव्वत्तणिया] शब्द
बनाने की क्रिया (अ २, १, भग ३, ३) ।
णिव्वत्तणया } श्री [निर्वत्तना] ऊपर देखो
णिव्वत्तणया } (परण ३४, उत्त ३) ।
णिव्वत्तय वि [निर्वत्तय] निष्पन्न करनेवाला,
बनानेवाला (वित्ते ११४२, स ५६३, हे २,
३०) ।
णिव्वत्ति श्री [निर्वत्ति] निष्पत्ति, विनिर्माण
(वित्ते ३००२) । देखो णिव्वत्ति ।
णिव्वत्तिय वि [निर्वत्तित] निष्पादित, बनाया
हुआ (स ३३६, सुर १५, २२१, ससि १०) ।
णिव्वत्तिय वि [निर्वत्तित] गोलाकार किया
हुआ (भग) ।
णिव्वत्तिअ वि [दे] परिभुक्त (दे ४, ३६) ।
णिव्वय अक [निर + वृ] शान्त होना,
उपरान्त होना । क णिव्वयणिज्ज (स
३०१) ।
णिव्वय वि [निर्वत्त] १ उपरान्त, शम-प्राप्त
(सूत्र १, ४, २) । २ परिणत, परिणाम-
प्राप्त (दसनि १) ।
णिव्वय वि [निर्वत्त] व्रत रहित, नियम-
रहित (पञ्च २, ८८, उप २६४ टी) ।
णिव्वयण न [निर्वचन] १ निश्चित, शब्दार्थ
कथन (आयम) । २ उत्तर, जवाब (अ १०) ।
३ वि. निश्चित करनेवाला, निर्वाचक, 'जान
दविमोवमोणे, अपचिच्चमविम्वयणिययाणां
(नम्म ८) ।
णिव्वयणिज्ज देखो णिव्वय = निर + वृ ।
णिव्वर सक [कथय्] दुःख सहना ।

गिट् टुअ अक [क्षर] टपकना, चूना ।
गिट् टुअह (हे ४, १७३) ।

गिट् टुअव वि [क्षरित] टपका हुआ (पात्र) ।

गिट् टुअह अक [वि + गल्] गल जाना,
नष्ट होना । गिट् टुअह (हे ४, १७५) ।

गिट् टु देखो गिट् टुा = नि + स्या । निहृइ (भवि) ।

गिट् टुय } सक [नि + स्थापय] १ समाप्त
गिट् टुव } करना, पूर्ण करना । २ अन्त करना,
खतम करना । ३ विशेष रूप से स्थापन
करना, स्थिर करना । भूका गिट् टुवसु (भा
२६, १) । संकृ गिट् टुविअ (पिग) । कृ
गिट् टुयणिज्ज (उप ५६७ टी) ।

गिट् टुवण न [निष्ठापन] १ अन्त करना,
समाप्ति । २ वि नाश-कारक, खतम करने-
वाला (सुपा १६१, गडड) । ३ समाप्त करने-
वाला (बी ५) ।

गिट् टुवय वि [निष्ठापक] समाप्त करनेवाला
(आव ६) ।

गिट् टुविअ वि [निष्ठापित] १ समाप्त किया
हुआ (पचव २) । २ विनाशित (से ६, १) ।

गिट् टुा अक [नि + स्था] खतम होना,
समाप्त होना । गिट् टुाह (विसे ६२७) ।

गिट् टुा बी [निष्ठा] १ अन्त, अग्रज्ञान, समाप्ति
(विसे २०३३, सुपा १३) । २ सद्भाव (आव
१) । ३ भासि वि [भापिन्] निष्ठा-पूर्वक
बोलनेवाला, निश्चय-पूर्वक भाषण करनेवाला
(आचा) ।

गिट् टुाण न [निष्ठाण] सर्व-गुण-युक्त भोजन
(सस ८, २२) ।

गिट् टुाण न [निष्ठाण] १ वही वगैरह व्यञ्जन
(ठा ४, २, परह २, ५) । २ समाप्ति (निहृ
१) । ३ कहा बी [कथा] भक्त-कथा-विशेष,
वही वगैरह व्यञ्जन की बात-चीत (ठा ४,
२) ।

गिट् टुावण देखो गिट् टुवण (सुपा ३५७) ।

गिट् टुवय वि [निष्ठित] १ समाप्त किया हुआ,
पूर्ण किया हुआ (उप १०३१ टी, कम्म ४,
७४) । २ मष्ट किया हुआ, विनाशित (सुपा
४४६) । ३ स्थिर (से ५, ७) । ४ निष्पन्न,
सिद्ध (आचा २, १, ६) । ५ पु मोक्ष, मुक्ति
(आचा) । ६ वि [र्थ] श्रवणत्व (परए

३६) । ७ टि वि [र्थिन्] मुमुक्षु, मोक्ष का
इच्छुक (आचा) ।

गिट् टुवय वि [निष्ठिक] निष्ठा-युक्त, निष्ठावाला
(परह २, ३) ।

गिट् टुवय पु [निष्ठीव] धूक, भूँह का पानी
(रमा) ।

गिट् टुवयण बीन [निष्ठीवन] धूक, खखार ।
२ धूकना (सट्ठि ७० टी) । बी णा (वव
१) ।

गिट् टुअ न [निष्ठयूत] धूक (कुलक ३०) ।

गिट् टुअय वि [निष्ठीवक] धूकनेवाला (परह
२, १, औप) ।

गिट् टुअयण देखो निट् टुवयण (वेदय ६३) ।

गिट् टुअर } वि [निष्ठुर] निष्ठुर, परब, कठिन
गिट् टुअल } (आप्र: हे १, २५४, पात्र, गडड) ।

गिट् टुअयण न [निष्ठीवन] १ धूक, खखार
(वव १) । २ वि धूकनेवाला (ठा ५, १) ।

गिट् टुअह अक [नि + स्तम्भ] निष्ठम्भ
करना, निश्चेष्ट होना, स्तब्ध होना । गिट् टु-
हह (हे ४, ६७, पड) ।

गिट् टुअह अक [नि + ष्ठीघ्] धूकना
निट् टुअही (तदु ४१) ।

गिट् टुअह वि [दे] स्तब्ध, निश्चेष्ट (दे ४,
३३) ।

गिट् टुअहण न [दे निष्ठीवन] धूक, भूँह का
पानी, खखार (महा) ।

गिट् टुअवयण वि [निष्ठम्भक] निश्चेष्ट करने-
वाला, स्तब्ध करनेवाला (कुमा) ।

गिट् टुअवय न [दे] धूक, निष्ठीवन, खखार
(दे ४, ४१) ।

गिट् टुअ पु [दे] पिशाच, राक्षस (दे ४, २५) ।

गिट् टुअल } न [छलाट] भाल, ललाट (पि
गिट् टुअल } २६०, पउम १००, ५७, सुपा
२०) ।

गिट् टुअ न [नीड] पक्षि-गृह (पात्र) ।

गिट् टुअण न [निर्दहन] जला देना (उप ५६३
टी) ।

गिट् टुअह देखो गिट् टुअ । गिट् टुअह (कुमा,
पड) ।

गिट् टुअय पु [निनाद] शब्द, आवाज, ध्वनि
(राया १, १, पउम २, १०३, से ६, ३०) ।

गिण्ण वि [निम्न] १ नीचा, अवस्तन (उत्त
१२; उव १०३१ टी) । २ क्विचि नीचे, अव-
(हे २, ४२) ।

गिण्णक्खु कि [निस्सारयति] बाहर निका-
लता है, 'ठायाया ठाय साहरति, वहिया वा
शिएणक्खु' (आचा २, २, १) ।

गिण्णगा बी [निम्नगा] नदी, ज्योतिस्विनी
(परए १, परह २, ४) ।

गिण्णट्ट वि [निर्नेट] नाश-प्राप्त (सुर ६,
६२) ।

गिण्णय पु [निर्णय] १ निश्चय, अवधारण
(हे १, ६३) । २ फेसला (सुपा ६६) ।

गिण्णया देखो गिण्णगा (पात्र) ।

गिण्णार वि [निर्नेगर] नगर से निर्गत (भग
१५) ।

गिण्णाला बी [दे] चण्डु, बौच (दे ४,
३६) ।

गिण्णस सक [निर + नाशय] विनाश
करना । वट्ट नित्रासित (सुपा ६५४) ।

गिण्णस पु [निर्णाश] विनाश (भवि) ।

गिण्णसिय वि [निर्णाशित] विनाशित
(सुर ३, २३१, भवि) ।

गिण्णह वि [निनिद्र] निद्रा-रहित (गा
६५६) ।

गिण्णमेस वि [निर्निमेप] १ निमेप-रहित,
विना पलक भपकाये, एक-टक । २ चेद्वा-
रहित । ३ अनुपयोगी (ठा ५, २) ।

गिण्णी सक [निर + णी] निश्चय करना ।
सकृ निण्णइत्त (वर्मवि १३६) ।

गिण्णीअ वि [निर्णात्] निश्चित, तक्की
किया हुआ (आ १२) ।

गिण्णुणअ वि [निम्नोन्नत] ऊँचा-नीचा,
विपम (अभि २०६) ।

गिण्णह वि [नि स्नेह] स्नेह-रहित (हे ४,
३६७, सुर ३, २२२, महा) ।

गिण्णहया बी [निह्विका] लिपि-विशेष
(सम ३५) ।

गिण्णह पु [निह्व] १ सत्य का अग्रलाप
गिण्णहय } करनेवाला, मिथ्यावादी (श्रेष्ठ
गिण्णहव } ४० भा, ठा ७, औप) २ अग्र-
लाप (सर्व ४१) ।

गिण्णहय सक [नि + ह्नु] अग्रलाप करना ।
शिएणहवह (विसे २२६६, हे ४, २३६) ।

गिन्विङ्गिच्छा स्त्री [निर्विचिन्तिता] फल-
प्राप्ति में शका का अभाव (श्रीप, पडि) ।
गिन्विद सक [निर् + विद्] अच्यो तरह
विचारना । निर्विदए (दस ४, १६, १७) ।
गिन्विद सक [निर् + विद्] घृणा करना ।
गिन्विदेज्ज (सुप्र १, २, ३, १२) ।
गिन्विदकपप } वि [निर्विदकप] १ सन्वेह-
गिन्विदगपप } रहित, नि सशय (कुमा, गच्छ
२) । २ भेद-रहित (सम्म ३३) ।
गिन्विगइय देखो गिन्विइय (सबोध ५८) ।
गिन्विगपप न [निर्विकल्पक] बौद्ध-असिद्ध
प्रत्यक्ष ज्ञान-विशेष (धर्मस ३१३) ।
गिन्विगिअ देखो गिन्विइअ (पव २) ।
गिन्विगघ वि [निर्विघ्न] विघ्न-रहित-वाधा-
वर्जित (सुपा १८७, सए) ।
गिन्विचित वि [निर्विचिन्त] चिन्ता-रहित,
निश्चिन्त (सुर ७, १२३) ।
गिन्विज्ज अक [निर् + विद्] निर्वेद पाना,
विरक्त होना । गिन्विज्जेज्जा (उव) ।
गिन्विज्ज वि [निर्विद्य] मूर्ख (उत्त ११, २) ।
गिन्विट्ट वि [निर्व्यूट] उपाजित, 'नानिन्विट्ट
लब्धई (पिड ३७०) ।
गिन्विट्ट वि [दे] उचित, योग्य (दे ४, ३४) ।
गिन्विट्ट वि [निर्विष्ट] उपमुक्त, आसेवित,
परिपालित (पाअ, अणु) । 'काइय न
[कायिक] जैन शास्त्र में प्रतिपादित एक
तरह का चारित्र (अणु, इक) ।
गिन्विण्ण वि [निर्विण्ण] निर्वेद-प्राप्त, खिन्न
(महा) ।
गिन्विच वि [दे] सो कर उठा हुआ (दे ४,
३२) ।
गिन्विचि देखो गिन्विचि । २ इन्द्रिय का
आकार, द्रव्येन्द्रिय-विशेष (विसे २६६४) ।
गिन्विद देखो गिन्विद = निर् + विद् (सुप्र
१, २, ३, १२) ।
गिन्विदुगुळ वि [निर्विजुगुप्स] घृणा-
रहित (धर्म १) ।
गिन्विज्ज देखो गिन्विण्ण (उव) ।
गिन्विभाग वि [निर्विभाग] विभाग-रहित
(दस ५) ।
गिन्विद्य देखो गिन्विइअ (सबोध ५७, कुलक
१२) ।

गिन्विजय वि [निर्विजन] १ मनुष्य-रहित ।
२ न एकान्त स्थल (सुर ६, ४२) ।
गिन्विज वि [दे] चिपट, बेठा हुआ, 'अइरिण-
विजरासाए' (गा ७२८ टि) ।
गिन्विराम वि [निर्विराम] विराम-रहित
(उप पृ १८३) ।
गिन्विलव क्रि वि [निर्विलम्ब] विलम्ब-रहित,
शीघ्र (सुपा २५५, कुप्र ५२) ।
गिन्विवेअ वि [निर्विवेक] विवेक-शून्य
(सुपा ३२३, ५००, गउड, सुर ८, १८१) ।
गिन्विस सक [निर् + विश्] त्याग करना ।
निन्विसेजा (कस) । वक्क गिन्विसत (राज) ।
गिन्विस सक [निर् + विश्] उपभोग
करना (पिड ११६ टी) ।
गिन्विस वि [निर्विष] विष-रहित (श्रीप) ।
गिन्विसक वि [निर्विशङ्क] शका-रहित,
निर्मय (सुर १२, १६) ।
गिन्विसमाण न [निर्विशमान] १ चारित्र-
विशेष (ठा ३, ४) । २ वि. उस चारित्र को
पालनेवाला (ठा ६) । 'कपट्टिइ स्त्री
[कल्पस्थिति] चारित्र-विशेष की मर्यादा
(कम) ।
गिन्विसय वि [निर्वेशक] उपभोग-कर्ता
(पिड ११६) ।
गिन्विसय वि [निर्विषय] १ विषयो की
अभिलाषा से रहित (उत्त १४) । २ अनर्थक,
निरर्थक (पचा १२, उप ६२५) । ३ देश से
बाहर किया हुआ, जिसको देशनिकाले की
सजा हुई हो वह (सुर ६, ३६, सुपा ५६६) ।
गिन्विसिट्ट वि [निर्विशिट्ट] विशेष-रहित,
समान, तुल्य (उप ५३० टी) ।
गिन्विसे स्त्री [निर्विषी] एक महौषधि
(ती ५) ।
गिन्विसेस वि [निर्विसेप] १ विशेष-रहित,
समान, साधारण (स २३, सम्म ६६, प्रासू
६८) । २ अमिल, जो जुदा न हो (से १५,
६५) ।
गिन्वी स्त्री [निर्विकृति] तप-विशेष (संबोध
५७) ।
गिन्वीय देखो गिन्विइअ (सबोध ५७) ।
गिन्वीरा स्त्री [निर्वीरा] पुत्र रहित विधवा
स्त्री (मोह ४६) ।

गिन्वुअ वि [निर्वृत] निर्वृति-प्राप्त (स
५६३, कप) ।
गिन्वुअ स्त्री [निर्वृति] १ निर्वाण, मोक्ष,
मुक्ति (कुमा, प्रासू १६४) । २ मन की
स्वल्पता, निश्चिन्तता (सुर ४, ८६) । ३
सुख, दुःख-निवृत्ति (भाव ४) । ४ जैन साधुओं
की एक शाखा (कप) । ५ एक राजकन्या
(उप ६३६) । 'कर वि [कर] निर्वृतिजनक
(परण १) । 'जणय वि [जनक] निर्वृति
का उत्पादक (गा ४२१) ।
गिन्वुअरा स्त्री [निर्वृतिकरा] भगवान्
सुमतिनाथ की दीक्षा-शिविका (निचार
१२६) ।
गिन्वुअ देखो गिन्वुअ (कुमा, आचा) ।
गिन्वुअ वि [निर्वृत] अचित्त किया हुआ
(दस ३, ६, ७) ।
गिन्वुअ देखो गिन्वुअ = नि + मस्त् । वक्क
गिन्वुअमाण (राज) ।
गिन्वुअइ देखो गिन्वुअइ । वक्क गिन्वुअइ-
माण (सुज ६—पत्र ८०) । सक्क गिन्वु-
अइत्ता (सुज ६) ।
गिन्वुअइ वि [निर्व्यूट] निर्वाहित, निभाया
हुआ (गा ३२) ।
गिन्वुअ देवो गिन्वुअ (गा १५५) ।
गिन्वुअ देखो गिन्वुअ = निर्वृत (पिप) ।
गिन्वुअि देखो गिन्वुअि (गा ८२८) ।
गिन्वुअ देखो गिन्वुअ (सखि ६) ।
गिन्वुअि देखो गिन्वुअ (प्राक ८) ।
गिन्वुअं देखो गिन्वुअ = निर् + वह् ।
गिन्वुअ वि [निर्व्यूट] १ जिसका निर्वाह
किया गया हो वह । २ कृत, विहित, निर्मित
(गा २५५, से १, ४६) । ३ जिसने निर्वाह
किया हो वह, पार-प्राप्त (विसे ४४) । ४
त्यक्त, परिशुभ (से ५, ६२) । ५ बाहर
निकाला हुआ, निष्सारित, निर्व्यूटा य परसा
ततो गाढ्यभोसमावन्ता' (उप १३१ टी) ।
गिन्वुअ वि [दे] १ स्तव्य (दे ४, ३३) ।
न घर का पश्चिम भाग (दे ४, २६) ।
गिन्वुअ वि [निर्व्यूट] किसी ग्रंथ से
उद्धृत वर उनाया हुआ ग्रन्थ (दसनि १,
१२) ।

गिहलण न [निर्वलन] १ मदन, विदारण (आवा) । २ वि. मदन करनेवाला (बजा ४२) ।

गिहल्लिअ वि [निर्वल्लित] मदित, विदारित (पात्र, सुर ५, २२२, साध ७६) ।

गिहह सक [निर + वह] जला देना, भस्म करना । गिहह (महा, उप) । गिह-हेजा (पि २२२) ।

गिहा अक [नि + द्रा] निद्रा लेना, नींद करना । गिहाइ (षड्) । बहू गिहाअत (से १, ५६) ।

गिहा ली [निद्रा] १ निद्रा, नींद (स्वप्न ५६, कप्प) । २ निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें एकाग्र आवाज देने पर ही आदमी जाग उठे (कम्म १, ११) । अत वि [वत्] निद्रा-युक्त, निद्रित (से १, ५६) । *करी ली [करी] लता-विशेष (दे ७, ३४) । *गिहा ली [निद्रा] निद्रा-विशेष, वह निद्रा जिसमें बड़ी कठिनाई से आदमी उठाय जा सके (कम्म १, ११, सम १५) । *ल, *लु वि [वन्] निद्रावाला (सक्ति २०, पि ५६५, आप्र) । *वअ वि [प्रद] निद्रा देनेवाला (से ६, ४३) ।

गिहाअ वि [निद्रात] जो नींद में हो (से १, ५६) ।

गिहाअ वि [निर्वाव] अग्नि-रहित (से १, ५६) ।

गिहाअ वि [निर्वाय] दाय-रहित, पैतृक धन से वर्जित (से १, ५६) ।

गिहाइअ वि [निद्रित] निद्रा-युक्त (महा) ।

गिहाणी ली [निद्राणी] विद्यादेवी-विशेष (पउम ७, १४४) ।

गिहाया देखो गिदा (पण ३५) ।

गिहारिअ वि [निर्दारित] खरिडत, विदारित (से ५, ८३, १३, ६५) ।

गिहाव वि [निर्वाव] १ दावनल रहित । २ जगल-रहित (से ६, ४३) ।

गिहिट्ट वि [निर्विष्ट] १ कथित, उक्त (भग) । २ प्रतिपादित, निरूपित (पचा ३, दस) ।

गिहिट्ट वि [निर्वेष्ट] निर्देश करनेवाला (विसे १५०४, विरू ६४) ।

गिहिस सक [निर + दिश्] १ उच्चारण करना, कथन करना । २ प्रतिपादन करना, निरूपण करना । गिहिसइ (विसे १५२६) । कर्म गिहिसइ (नाट—मालवि ५३) । हेह. गिहेट्टु (पि ५७६) । कृ गिहिसस, गिहेस (विसे १५२३) ।

गिह्दुक्ख वि [निर्दुख] दुःख रहित, सुखी (सुपा ५३७) ।

गिह्दुदुर पु [दे नेत्तर] देश-विशेष (इक) ।

गिह्दूसण वि [निर्दूपण] निर्दोष (धर्मवि २०) ।

गिहेस पु [निर्देश] १ लिंग या अर्थ-मात्र का कथन (ठा ८—अ ४२७) । २ विशेष का अभिधान, 'अविसेसियमुहेसो विसेसिओ होइ गिहेसो' (विसे, १४६७, १५०३) । ३ निश्चय पूर्वक कथन (विसे १५२६) । ४ प्रतिपादन, निरूपण (उत्त १, एदि) । ५ आज्ञा, हुकुम (पात्र, दस ६, २) । ६ वि जिसको देश-निकाले की आज्ञा हुई हो वह (पउम ४, ८२) ।

गिहेसग } वि [निर्देशक] निर्देश करने-
गिहेसय } वाला (विसे १५०८, १५००) ।

गिहोस्थ न [निर्दोस्थ] १ दुःस्थता का अभाव (वव ४) । २ वि. स्वस्थ, दुःस्थता-रहित (वव ७) ।

गिहोस वि [निर्दोष] दोष-रहित, रूपण-वर्जित, विशुद्ध (मउड, सुर १, ७३) ।

गिह न [स्निग्ध] स्नेह, रस-विशेष (ठा १, अणु) । २ वि. स्नेह-युक्त, चिकना (हे २, १०६, उव, षड्) । ३ कान्ति-युक्त, तेजस्वी (बृह ३) ।

गिहंत वि [निर्धाम] अग्नि-संयोग से विशो-धित, मल-रहित (पण १, ४, औप) ।

गिहंघस वि [दे] १ निर्दय, निष्ठुर (दे ४, ३७, औष ४४५, पात्र, पुष्प ४५४, सट्टि २६, सुपा २४५, आ ३६) । २ निर्लज्ज, वेशरम (विदे १२८) ।

गिहण वि [निर्धन] धन-रहित, अकिंचन (हे २, ६०, राया १, १८, दे ४, ५, उप ७६ टी, महा) ।

गिहण वि [निर्धान्य] धान्य-रहित (तडु) ।

गिद्धम वि [दे] अविभिन्न-गृह, एक ही घर में रहनेवाला (दे ४, ३८) ।

गिद्धमण न [दे] खाल, मोरी, पानी जाने का रास्ता (दे ४, ३६, उर २, १०, ठा ५, १, आरवम, तडु, उव, राया १, २) ।

गिद्धमण न [निर्धामन] १ तिररकार, अ-हेलना (उप पृ ४६) । २ पृ. यक्ष-विशेष (आव ४) ।

गिद्धमाय वि [दे] अविभिन्न-गृह, एक ही घर में रहनेवाला (दे ४, ३८) ।

गिद्धम्म वि [दे] एकमुख-यापी, एक ही तरफ जानेवाला (दे ४, ३५) ।

गिद्धम्म वि [निर्वर्मन्] धर्म-रहित, धर्मो (आ २७) ।

गिद्धय वि [दे] देखो गिद्धम (दे ४, ३८) ।

गिद्धाइऊण देखो गिद्धाव ।

गिद्धाड सक [निर + धाट्टय] बाहर निकाल देना । कर्म गिद्धाडिजई (सवेष १६) ।

गिद्धाडण न [निर्घाटन] निस्सारण, निष्का-सन, बाहर निकालना (पण १, १) ।

गिद्धाडायि वि [निर्घाटित] अन्य द्वारा बाहर निकलनाया हुआ, अन्य द्वारा निस्सारित (महा) ।

गिद्धाडिय वि [निर्घाटित] निस्सारित, निष्कासित (पात्र, अवि) ।

गिद्धारण न [निर्धारण] १ गुण या जाति आदि को लेकर समुदाय से एक भाग का पृथकरण । २ निश्चय, अवधारण (विने ११६८) ।

गिद्धाय सक [निर + धाव] दौडना । सक गिद्धाइऊण (महा) ।

गिद्धायि वि [निर्घावित] दौडा हुआ, धावित (महा) ।

गिद्धुण सक [निर + घू] १ विनाश करना । २ दूर करना । सक गिद्धुणे, गिद्धुय (दस ७, ५७, सूय १, ७) ।

गिद्धुणिय } वि [निर्धूत] १ विनाशित,
गिद्धुय } नष्ट किया हुआ । २ अर्पणीत (सुपा ५६६, औप) ।

गिद्धूम वि [निर्धूम] १ धूम रहित (कप्प, पउम ५३, १०) । २ एक तरह का अपलक्षण (वव २) ।

गिसाम वि [नि श्याम] मालिन्य-रहित, निर्मल (से ६, ४७)।

गिसामण देखो गिसमण (सुपा २३)।

गिसामिअ वि [दे निशमित] १ श्रुत, आकर्णित (दे ४, २७, गा २६)। २ उप-शमित, दबाया हुआ। ३ सिमटाया हुआ, संकोचित, 'नस्सामिओ फयाभोओ' (स ३५८)।

गिसामिर वि [निशमयित्] सुननेवाला (मण)।

गिसाय वि [दे] प्रसुप्त (दे ४, ३५)।

गिसाय वि [निशत] शान दिया हुआ, तीक्ष्ण (पात्र)।

गिसाय पुं [निपाद] १ चायडाल, एक प्राचीन जाति (दे ४, ३५)। २ स्वर-विशेष (ठा ७)।

गिसायत वि [निशातान्त] तीक्ष्ण धार-वाला (पात्र)।

गिसास सक [निर् + श्वासय्] नि श्वास डालना। वक्र. गिस्सासएत (पउम ६१, ७३)।

गिस्सास देखो गीसास (पिंग)।

गिसि° देखो गिसा (हे १, ८, ७२, वड, सुर १, २७)। °पालअ पु [°पालक] छन्द-विशेष (पिंग)। °भत न [°भक्त] रात्रि-भोजन (श्लो ७८७)। °भुक्त न [°भुक्त] रात्रि भोजन (सुपा ४६१)।

गिसिअ देखो गिसीअ एिसिअइ (सण, कप्प)। सक्र एिसिइत्ता (कप्प)।

गिसिअ वि [निशित] शान दिया हुआ, तीक्ष्ण (से ५, ४६, महा, हे ४, ३३०)।

गिसिअ सक [नि + सिच्] प्रक्षेप करना, डालना। सक्र गिसिअिय (आचा)।

गिसिअा देखो गिसअा (कप्प, सम ३५, ठा ५, १)। ३ उपाश्रय, साधुओं का स्थान (पच ४)।

गिसिअममाण देखो गिसेह = नि + पिच्।

गिसिट्ट वि [निसुट्ट] १ बाहर निकाला हुआ (भास १०)। २ दत्त, प्रदत्त (आचा)। ३ अनुनात (इह १)। ४ बनाया हुआ। त्रिपि आमयहराह ...पउमो निहो निसिट्ट जरणमेह' (उप ६८६ टी)।

गिसिट्ट वि [निपिट्ट] प्रतिपिद्ध, निवारित (पचा १२)।

गिसिय वि [न्यस्त] स्थापित (धर्म ७३)।

गिसियण न [निपटन] उपवेशन (पव)।

गिसिर सक [नि + सूज्] १ बाहर निकालना। २ देना, त्याग करना। ३ करना। एिसिरइ (भास ५, भग), 'एिरवराहाण। निसिरति जे न दड, तेवि हू पावति निव्वाए' (सुर १५, २३४)। कर्म निसिरिज्जइ, निसिरिज्जए (विसे ३५७)। वक्र निसिरत (पि २३५)। कवक्र निसिरिज्जमाण (पि २३५)। सक्र गिसिरित्ता (पि २३५)। प्रयो निसिरावैति (पि २३५)।

गिसिरण न [निसर्जन] १ निस्सारण (भास २)। २ त्याग (रागा १, १६)।

गिसिरणया } स्त्री [निसर्जना] १ त्याग,
गिसिरणा } दान (आचा २, १, १०)।
२ निस्सारण, निष्कासन (भग)।

गिसीअ अक [नि + पट्] बैठना। एिसीअइ (भग)। वक्र गिसीअत, गिसीअमाण (भग १३, ६, सूम १, १, २)। सक्र गिसीइत्ता (कप्प)। हेक्र गिसीइत्तए (कस)। क्र गिसीइयव्व (रागा १, १, भग)।

गिसीअण न [निपटन] उपवेशन, बैठना (उप २६४ टी, स १८०)।

गिसीआवण न [निपादन] बैठाना (कस ४, २३ टी)।

गिसीठ देखो गिसीह = निशीय (हे १, २१६, कुमा)।

गिसीट्टण देखो गिसीअण (श्रीप)।

गिसीह पुंन [निशीथ] १ मध्य रात्रि (हे १, २१६, कुमा)। २ प्रकाश का अभाव (निच् ३)। ३ न जैन आगम-ग्रन्थ विशेष (एदि)।

गिसीह पुं [नृसिंह] उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ मनुष्य (कुमा)।

गिसीहिअ वि [नैशीथिक] निज के लिए लाया गया हे ऐसा नहीं जाना हुआ भोजनादि पदार्थ (पिड ३३६)।

गिसीहिआ स्त्री [नैपेथिकी] १ शव-परिष्ठापन-भूमि, श्मशान-भूमि (मणु २०)। २ बैठने की जगह (राय ६३)।

गिसीहिआ स्त्री [निशीथिका] १ स्वाध्याय-भूमि, अध्ययन स्थान (आचा २, २, २)। २ थोड़े समय के लिए उपात्त स्थान (भग १४, १०)। ३ आचाराङ्ग सूत्र का एक अध्ययन (आचा २, २, २)।

गिसीहिआ स्त्री [नेपेथिकी] १ स्वाध्याय-भूमि (सम ४०)। २ पाप-क्रिया का त्याग (पडि, कुमा)। ३ व्यापारान्तर के निषेध रूप आचार (ठा १०)। देखो गिसेहिया। गिसीहिणी स्त्री [निशीथिनी] रात्रि, रात (उप ५ १२७)। °नाह पु [°नाय] चन्द्रमा (कुमा)।

गिसुअ वि [दे निश्रुत] श्रुत, आकर्णित (दे ४, २७, सुर १, १६६, २, २२६, महा, पात्र)।

गिसुद पु [निसुन्द] रावण का एक सुभट (पउम ५६, २६)।

गिसुंभ सक [नि + शुम्भ्] मार डालना, व्यापादन करना। कवक्र गिसुंभत, गिसुंभत (से ५, ६६, १४, ३, पि ५३५)। गिसुंभ पु [निशुम्भ] १ स्वनाम व्यात एक राजा, एक प्रतिवासुदेव (पउम ५, १५६, पव २११)। २ दैत्य-विशेष (पिंग)।

गिसुंभण न [निशुम्भन] १ मर्दन, व्यापादन, विनाश। २ वि मार डालनेवाला (सुम १, ५, १)।

गिसुंभा स्त्री [निशुम्भा] स्वनाम-व्यात एक इन्द्राणी (रागा २, इक)।

गिसुंभिय वि [निशुम्भित] निपातित, व्यापातित (सुपा ४६०)।

गिसुट्ट } वि [दे] ऊपर देने (हे ४,
गिसुट्टिअ } २५८, से १०, ३६)।

गिसुट्ट देखो गिसुट्ट = नय। निसुट्ट (पट्)।

गिसुट्ट देखो गिसुट्ट (हे ४, २५८ टि)।

गिसुट्ट अक [नम्] भार से आराम होकर नीचे नमना, झुकना। एिसुट्टइ (ह ४, १५८)।

गिसुट्ट सक [नि + शुम्भ्] मारना, मार कर गिराना। कवक्र. गिसुट्टिज्जंत (पि ३,

गिसुट्टिअ वि [नत्] भार से नमना हुआ (पात्र)।

गिसुट्टिअ वि [निशुम्भित] निपातित (पि १२, ६१)।

गिप्पुलाय वि [निष्पुलाक] चारित्र-दोष से रहित (स १०, १६)।

गिप्फद् देखो गिप्फद् (हे २, २११, णाया १, २, सुर ३, १७२)।

गिप्फस वि [दे] निर्दय, निर्दय (षट्)।

गिप्फज्ज अक [निर् + पद्] नीपजना, उपजना, सिद्ध होना। गिप्फज्ज (स ६१६)।

वक्क गिप्फज्जमाण (परह १, ४)।

गिप्फडिअ वि [निस्फटित] १ विशीर्ण। २ जिसका मिजाज ठिकाने पर न हो। ३ अकुश-रहित (उप १२८ टी)।

गिप्फण वि [निप्पन्न] नीपजा हुआ, बना हुआ, सिद्ध (से २, १२, महा)।

गिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, सिद्धि (उव, उप २८० टी, साधं १०६)।

गिष्फन्न देखो गिष्फण (कप्प, णाया १, १६)।

गिष्फरिस वि [दे] निर्दय, दया हीन (दे ४, ३७)।

गिष्फल वि [निष्फल] फल-रहित, निरर्थक (से १४, २६, गा १३६)।

गिष्फाअ देखो गिष्फाव (आप्र)।

गिष्फाइऊण देखो गिष्फाय।

गिष्फाइय वि [निष्पादित] नीपजाया हुआ, बनाया हुआ, सिद्ध किया हुआ (विसे ७ टी, उप २११ टी, महा)।

गिष्फाय सक [निर् + पादय्] नीपजाना, बनाना, सिद्ध करना। सक गिष्फाइऊण (पचा ७)।

गिष्फायग वि [निष्पादक] नीपजानेवाला, बनानेवाला, सिद्ध करनेवाला (विसे ४८३, ठा ६, उप ८२८)।

गिष्फायण न [निष्पादन] नीपजाना, निर्माण, कृति (आव ४)।

गिष्फाव पु [निष्पाव] धान्य-विशेष, वल्ल (हे २, ५३, परए १, ठा ५, ३, आ १८)।

गिष्फाव पुं [निष्पाव] एक माप, वाँट-विशेष (आणु १५५)।

गिष्फड अक [नि + स्फट्] बाहर निकलना। वक्क गिष्फडत (स ५७४)।

गिष्फडिअ वि [निस्फटित] निर्गत, बाहर निकला हुआ (पउम ६, २२७, ८०, ६०)।

गिष्फुर पु [निस्फुर] प्रमा, तेज (गउड)।

गिष्फेड पु [निस्फेट] निर्गमन, बाहर निकलना (उप पु २५२)।

गिष्फेडय वि [निस्फेटक] बाहर निकालनेवाला (सुअ २, २, ८५)।

गिष्फेडय वि [निस्फेटित] १ निस्सारित, निष्कासित (सुअ २, २)। २ भगाया हुआ, नसाया हुआ (पुष्फ १२५)। ३ अपहृत, छीना हुआ (ठा ३, ४)।

गिष्फेडिया वी [निस्फेटिका] अपहरण, चोरी, 'एसा पढमा सीसनिष्फेडिया' (सुअ २, १३, पव १०७)।

गिष्फेस पु [दे] शब्द-निर्गम, आवाज निकलना (दे ४, २६)।

गिष्फेस पु [निष्पेष] १ पेषण, पीसना। २ सघर्ष (हे २, ५३)।

गिषध सक [नि + वन्ध्] १ बाँधना। २ करना। निषध (भग)।

गिषध सक [नि + वन्ध्] उपाजें करना। गिषधति (पचा ७, २२)।

गिषध पुन [निबन्ध] १ सवन्ध, सयोग (विसे ६६८)। २ आग्रह, हठ (महा), 'गिबन्धाणि' (पि ३५८)।

गिषधण न [निषधन] कारण, प्रयोजन, निमित्त (आप्र, प्रासु ६६)।

गिषद्ध वि [निबद्ध] १ बाँधा हुआ (महा)। २ सयुक्त, सबद्ध (से ६, ४४)।

गिषिड वि [निषिड] सान्द्र, घना, गाढ (गउड, कुमा)।

गिषिडिय वि [निषिडित] निषिड किया हुआ (गउड)।

गिषुक्क [दे] देखो गिषुक्क (परह १, ३—पत्र ४६)।

गिषुडु अक [नि + मस्ज्] निमज्ज करना, झुबना। वक्क गिषुडुज्जत, निषुडुमाण (अच्छु ६३, उवा)।

गिषुडु वि [निमज्ज] हुवा हुआ, निमज्ज (गा ३७, सुर ३, ५१, ४, ८०)।

गिषुडुण न [निमज्जत] झुबना, निमज्ज (पउम १०, ४३)।

गिषोल देखो गिषुडु = नि + मस्ज्। वक्क गिषोलिज्जमाण (राज)।

गिषोह पुं [निषोव] १ प्रकृत बोध, उत्तम ज्ञान। २ अनेक प्रकार का बोध (विसे २१८७)।

गिषोहण न [निषोघन] प्रबोध, समझाना (पउम १०२, ६२)।

गिष्वध पु [निर्वन्ध] आग्रह (गा ६७५, महा, सुर ३, ८)।

गिष्वघण न [निर्वन्धन] निवन्धन, हेतु, कारण, 'सारीरियत्थेयनिव्वघण घण' (काल)।

गिष्वल देखो गिष्वल = निर् + पद्। गिष्वलद (प्राक ६४)।

गिष्वल वि [निर्वल] बल-रहित, दुर्बल (आवा)।

गिष्वहिं अ [निर्वहिस्] अत्यन्त बाहर (ठा ६—पत्र ३५२)।

गिष्वहिरि वि [निर्वाह्य] बाहर का, बाहर गया हुआ, 'सजमनिव्वहिरा जाया' (उवा)।

गिष्वुक्क वि [दे] १ निर्मूल, मूल-रहित। २ क्वि, मूल से, 'गिष्वुक्कखिएणय' (परह १, ३—पत्र ४५)।

गिष्वुडु देखो गिषुडु = निमज्ज (स ३६०, गउड)।

गिन्मच्छण देखो गिन्मच्छण (उव ३०३)।

गिन्मज्जण न [दे] पक्वान्न के पकाने पर जो शेष घृत रहता है वह (पमा ३३)।

गिन्मभत वि [निभ्रान्त] नि संदेह, सशय-रहित (ति १४)।

गिन्मभग न [दे] उद्यान, वगीचा (दे ४, ३४)।

गिन्मभग वि [निभ्रग्य] भाग्य रहित, कम-नसीब, अभागा (उप ७२८ टी, सुपा ३८५)।

गिन्मच्छक सक [निर् + भत्सं] १ तिरस्कार करना, अपमान करना, भ्रवहेलना करना, आकोश-पूर्वक अपमान करना।

गिन्मच्छेद, गिन्मच्छेजा (णाया १, १८, उवा)। सक गिन्मच्छिअ (नाट—मालती १७१)।

गिन्मच्छण न [निभ्रत्सं] तिरस्कार, अपमान, पक्ष वचन से भ्रवहेलना (परह १, ३, गउड)।

गिन्मच्छणा वी [निभ्रत्सं] ऊपर देखो (भग १५, णाया १, १६)।

गिस्मार सक [निर + सारय्] बाहर निकालना । निस्सारइ (कुप्र १५४) ।
 गिस्सार } वि [नि सार] १ सार-हीन,
 गिस्सारग } निरर्थक (अणु, सूत्र १, ७, आचा) । २ जीर्ण, पुराना (आचा) ।
 गिस्सारय वि [नि सारक] निकालनेवाला (उप २८० टी) ।
 गिस्सारिय वि [नि सारित] १ निकाला हुआ । २ च्यावित, अष्ट किया हुआ (सूत्र १, १४) ।
 गिस्सास पु [नि श्वास] नि श्वास, नीचा श्वास (भग) । २ काल-मान-विशेष (इक) । ३ प्राण-वायु, प्रश्वास (प्राप्र) ।
 गिस्साहार वि [नि स्वांधार] निराधार, आलम्बन-रहित (सण) ।
 गिस्सिग वि [नि शृङ्ग] शृंग-रहित (सुपा ३१३) ।
 गिस्सिघिय न [नि शिद्धित] अव्यक्त शब्द-विशेष (विसे ५०१) ।
 गिस्सिच अक [निर + सिच्] प्रक्षेप करना, डालना, फेंकना । वक्क गिस्सिचमाण (राज) । सक गिस्सिचिया (दस ५, १) ।
 गिस्सिणेह वि [नि स्नेह] स्नेह-रहित (पि १४०) ।
 गिस्सिय वि [निश्रित] १ आश्रित, अवलम्बित (ठा १०, भास ३८) । २ आसक्त, अनुरक्त, तल्लीन (सूत्र १, १, १, ठा ५, २) । ३ न. राग, आसक्ति (ठा ५, २) ।
 गिस्सिय वि [निश्रित] १ निश्चय से बढ़ (सूत्र २, ६, २३) । २ पक्षपाती, रागी (वव १) ।
 गिस्सिय वि [नि.सूत] निर्गत, नियत (भास ३८) ।
 गिस्सील वि [नि.शील] सदाचार-रहित, दु शील (पउम २, ८८, ठा ३, २) ।
 गिस्सुग वि [नि शूक] निर्दय, निष्करुण (आ १२) ।
 गिस्सेज्जा देखो गिसेज्जा (पव १२७) ।
 गिस्सेणि जी [नि श्रेणि] सीढ़ी (पएह १, १, पाप्र) ।
 गिस्सेयस न [नि श्रेयस] १ कल्याण, भगवत्, धेम (ठा ४, ४, राया १, ८) ।

२ मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण (श्रीप, एदि) । ३ अम्युदय, उन्नति (उत ८) ।
 गिस्सेयसिय वि [नै श्रेयसिक] मुमुक्षु, मोक्षार्थी (भग १५) ।
 गिस्सेस वि [नि शेष] सर्व, सब, सकल (उप २००) ।
 गिह वि [निभ] १ समान, तुल्य, सदृश (से १, ५८, गा ११४, दे १, ५१) । २ न. वहाना, व्याज, छल (पाप्र) ।
 गिह वि [निह] १ मायावी, कपटी (सूत्र १, ६) । २ पीडित (सूत्र १, २, १) । ३ न. आघात-स्थान (सूत्र १, ५, २) ।
 गिह वि [सिन्ह] रागी; राग-युक्त (आचा) ।
 गिहतव्य देखो गिहण = नि + हन् ।
 गिहस पुं [निघर्ष] घर्षण (गउड) ।
 गिहसण न [निघर्षण] घर्षण, रगड (से ५, ४६, गउड) ।
 गिहट्टु अ १ जुदा कर, घुथक् करके (आचा) । २ स्थापन कर (राया १, १६) ।
 गिहट्टु वि [निघृष्ट] घिसा हुआ (हे २, १७४) ।
 गिहण सक [नि + हन्] १ निहत करना, मारना । २ फेंकना । गिहणामि (कुप्र २६२) । गिहणाहि (कप्प) । भूका—गिहणिसु (आचा) । वक्क निहणत (सण) । संक गिहणित्ता (पि ५८२) । क गिहतव्य (पउम ६, १७) ।
 गिहण सक [नि + खन्] गाडना । 'निहणति घरा घरणीयलमि' (वज्जा ११८) । हेक 'बोरो दव्व निहणि उम् आरखो' (महा) ।
 गिहण न [दे] कूल, तीर, किनारा (दे ४, २३) ।
 गिहण त [निघन] १ मरण, विनाश (पाप्र, जी ४६) । २ पु रावण का एक सुमट (पउम ५६, ३२) ।
 गिहणण न [निहनन] निहति, मारना (महा, स १६३) ।
 गिहणिअ वि [निहत] मारा हुआ (सुपा १५८, सण) ।
 गिहत्त सक [निधत्तय्] कर्म को निबिड रूप से बांधना । भूका गिहत्तिसु (भग) । भवि गिहत्तेत्तंति (भग) ।

गिहत्त देखो गिधत्त (भग) ।
 गिहत्तण न [निधत्तण] कर्म का निबिड बन्वन (भग) ।
 गिहत्ति देखो गिधत्ति (राज) ।
 गिहम्म सक [नि + हम्म] जाना, गमन करना । गिहम्मइ (हे ४, १६२) ।
 गिहय वि [निहत] मारा हुआ (गा ११८, सुर ३, ४६) ।
 गिहय वि [निखात] गाडा हुआ (स ७५६) ।
 गिहर अक [नि + ह] पाखाना जाना (प्रामा) ।
 गिहर अक [आ + क्रन्द] विल्लाना । गिहरइ (पडू) ।
 गिहर अक [निर + स] बाहर निकलना । गिहरइ (पडू) ।
 गिहरण देखो गीहरण (राया १, २—पत्र ८६) ।
 गिहव देखो गिहुव । गिहवइ (नाट, पि ४१३) ।
 गिहव वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (पडू) ।
 गिहव पुं [निवह] समूह (पडू) ।
 गिहस सक [नि + घृप्] घिसना । सक-गिहसिऊण (उव) ।
 गिहस पु [निरुष] १ कपपट्टक, कसौटी का पत्थर (पाप्र) । २ कसौटी पर की जाती रेखा (हे १, १८६, २६०, प्राप्र) ।
 गिहस पु [निघर्ष] घर्षण, रगड (से ६, ३३) ।
 गिहस पु [दे] वल्मीक, सर्प आदि का बिल (दे ४, २५) ।
 गिहसण न [निघर्षण] घर्षण, रगड (से ६, १०, गा १२१, गउड, वज्जा ११८) ।
 गिहसिय वि [निघर्षित] घिसा हुआ (वज्जा १५०) ।
 गिहा जी [निहा] माया, कपट (सूत्र १, ८) ।
 गिहा सक [नि + धा] स्थापना करना । निहेउ (स ७३८) । कवक्क गिहिप्यत (से ८, ६७) । सक गिहाय (सूत्र १, ७) ।
 गिहा सक [नि + हा] त्याग करना । संक-गिहाय (सूत्र १, १३) ।
 गिहा } सक [हृत्] देखना । गिहाइ,
 गिहाआ } गिहामाइ (पडू) ।

गिम्मइअ वि [निर्मित] रचित, कृत (गा ५००, ६०० अ)।

गिम्मथण न [निर्मथण] १ विनाश। २ वि, विनाशक, 'तह य पयट्टुसु सिग्घं एत्थानिम्मथण तित्थं' (सुपा ७१)।

गिम्मस वि [निर्मास] मास-रहित, शुष्क (खाया १, १, भग)।

गिम्मसा झी [दे] देवी-विशेष, चामुण्डा (दे ४, ३५)।

गिम्मसु वि [दे. नि रमश्चु] तल्प, जवान, युवा (दे ४, ३२)।

गिम्मक्खिअ देवो गिम्मच्छिअ = निर्मक्षिक (नाट)।

गिम्मच्छ सक [नि + अक्ष] विलेपन करना। गिम्मच्छइ (भवि)।

गिम्मच्छण न [निअक्षण] विलेपन (भवि)।

गिम्मच्छर वि [निर्मास्सय्ये] मात्सर्य-रहित, ईर्ष्या-शून्य (उप पृ ८४)।

गिम्मच्छिय वि [निअक्षित] विलिप्त (भवि)।

गिम्मच्छिअ न [निर्माक्षिक] १ मक्षिका का अभाव। २ विजन, निर्जनता (अभि ६८)।

गिम्महजाय वि [निर्मय्याद] मर्यादा-रहित, बेहया (दे १, १३३)।

गिम्मज्जिय वि [निर्माजित] उपलित्त (स ७५)।

गिम्मण वि [निर्मनस्] मन रहित (द्रव्य १२)।

गिम्मणुय वि [निर्मनुज] मनुष्य-रहित (सण)।

गिम्महय वि [निर्मदक] १ निरन्तर मर्दन करनेवाला। २ पुं चोरो की एक जाति (परह १, ३)।

गिम्महिय वि [निर्मदित] जिसका मर्दन किया गया हो (परह १, ३)।

गिम्मम वि [निर्मम] १ ममता-रहित, नि स्वह (अच्छु ६६, सुपा १४०)। २ पु. भारत-वर्ष के एक भावी जिनदेव (सम १५४)।

गिम्मय वि [दे] गत, गया हुआ (दे ४, ३४)।

गिम्मल वि [निर्मल] मल-रहित, निशुद्ध (स्वप्न ७०, प्रासु १३१)। २ पु ब्रह्म-देव-लोक का एक प्रस्तर (ठा ६)।

गिम्मल्ल न [निर्माल्य] देव का उच्छिष्ट द्रव्य, देवता पर चढ़ाई हुई वस्तु का बचा-बुचा (हे १, ३८, षड्)।

गिम्मव सक [निर् + मा] बनाना, रचना, करना। गिम्मवइ (हे ४, १६, षड्)। कर्म. निम्मविज्जति (वजा १२२)।

गिम्मव सक [निर् + मापय्] बनवाना, कराना (ठा ४, ४, कुमा)।

गिम्मवइत्तु वि [निर्मापयित्तु] बनवानेवाला (ठा ४, ४)।

गिम्मवण न [निर्माण] रचना, कृति (उप ६४८ टो, सुपा २३, ६५, ३०५)।

गिम्मवण न [निर्माण] बनवाना, कराना (कप्प)।

गिम्मविअ वि [निर्मित] बनाया हुआ, रचित (कुमा, गा १०१, सुर १६, ११)।

गिम्मविअ वि [निर्मापित्तु] बनवाया हुआ (कुमा)।

गिम्मह सक [गम्] १ जाना, गमन करना। २ अक फैलना। गिम्महइ (हे ४, १६२)। बहू गिम्महत, गिम्महमाण (से ७, ६२, १५, ५३, स १२६)।

गिम्मह पु [निर्मथ] १ विनाश। २ वि विनाशक (भवि)।

गिम्महण न [निर्मथण] १ विनाश। २ वि विनाश-कारक (सुपा ७५) झी णो (सुर १६, १८४)।

गिम्माहिअ वि [गत] गया हुआ (कुमा)। गिम्माहिअ वि [निर्मथित] विनाशित (हेका ५०)।

गिम्मा देखो गिम्म। गिम्माइ (प्राक्क ६४)। गिम्माअत देखो गिम्म।

गिम्माइअ देखो गिम्माय (पि ५६१)। गिम्माण सक [निर् + मा] बनाना, करना, रचना गिम्माणइ (हे ४, १६, षड्, प्राप्र)।

गिम्माण न [निर्माण] १ रचना, बनावट, कृति। २ कर्म-विशेष, शरीर के अंगोपांग के निर्माण में नियामक कर्म-विशेष (सम ६७)। गिम्माण वि [निर्माण] मान-रहित (से ३, ४५)।

गिम्माणअ वि [निर्मायक] निर्माण-कर्ता; बनानेवाला (से ३, ४५)।

गिम्माणिअ वि [निर्मित] रचित, बनाया हुआ (कुमा)।

गिम्माणिअ वि [निर्मानित] अपमानित, तिरस्कृत (भवि)।

गिम्माणुस वि [निर्मानुप] मनुष्य-रहित (सुपा ४४४)। झी णो (महा)।

गिम्माय वि [निर्मात] १ रचित, विहित, कृत (उव, पात्र, वजा ३४)। २ निपुण, अश्रम्यस्त, कुशल (श्रौप, कप्प), 'नाहियसत्थेसु निम्माया परिवाइया' (सुर १२, ४२)।

गिम्माय न [निर्माय] तप-विशेष, निवि-कृतिक तप (संबोव ५८)।

गिम्माअिअ देखो गिम्मल्ल (प्राक्क १६)।

गिम्माव सक [निर् + मापय्] बनवाना, करवाना। गिम्मावइ (सण)। क. गिम्मा-चित्त (सूत्र २, १, २२)।

गिम्माविअ वि [निर्मापित्तु] बनवाया हुआ, कारित, कराया हुआ (सुपा २६७)।

गिम्मिअ वि [निर्मित] रचित, बनाया हुआ (ठा ८, प्रासु १२७)। वाइ वि [वादिन्] जगत् को ईश्वरादि-कृत माननेवाला (ठा ८)।

गिम्मिअस वि [निर्मिअ] १ मिला हुआ, मिश्रित। वही झी [वही] अत्यन्त नज-दीक का स्वजन, जैसे माता, पिता, भाई, भगिनी, पुत्र और पुत्री (वव १०)।

गिम्मिअस वि [निर्मिअ] मिश्रण-रहित (देवेन्द्र २६०)।

गिम्मिसुअ वि [दे] रमश्चु-रहित, दाढी-मूँछ बजित (षड्)।

गिम्मिअ वि [निर्मुक्त] मुक्त किया गया (सुपा १७३)।

गिम्मिअ पु [निर्मोक्ष] मुक्ति, छुटकारा (विसे २४६८)।

गिम्मिअ वि [निर्मूल] मूल-रहित, जिसका मूल काटा गया हो वह (सुपा ५३५)।

गिम्मिअ वि [निर्मय्याद] मर्यादा-रहित, निर्लज्ज (ठा ३, १, श्रौप, सुपा ६)।

गिम्मिअ पु [निर्मोक] कन्धुक, कंधुल, सर्प की त्वचा (हे २, १८२, भत ११०, से १, ६०)।

गिम्मिअणी झी [निर्मोचनी] कन्धुक, निर्मोक (उत्त १४, ३५)।

णीजूह देखो णिञ्जूह = दे निर्गूह (राज) ।
 णीढ देखो णिडु (गा १०२, हे १, १०६) ।
 णीण सक [गम्] जाना, गमन करना ।
 खीणइ (हे ४, १६२) । खीणति (कुमा) ।
 णीण सक [नी] १ ले जाना । २ बाहर ले जाना, बाहर निकालना, 'भारभडाणि खीरोइ, अमार अबज्जफइ' (उत्त १६, २२) । भवि नीखेहिइ (महा) । वड्ढ णीणेमाण । कवड्ढ नीणिज्जत, णीणिज्जमाण (पि ६२, आचा) । सक णीणेऊण, णीणेत्ता (महा, उवा) ।
 णीणाविय वि [नायित] दूसरे द्वारा ले जाया गया, अन्य द्वारा आनीत (उप १३६ टी) ।
 णीणिअ वि [गत्] गया हुआ (पात्र) ।
 णीणिअ वि [नीत्] १ ले जाया गया (उप ५६७ टी, सुपा २६१) । २ बाहर निकाला हुआ (आया २, ४) । 'अयस्सविडुडुरियाए नीणिणो अत्तपत्तमो' (सुपा ३८१) ।
 णीणिआ खी [नीनिका] चतुरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति (जीव १) ।
 णीम पुं [नीप] १ वृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड़ । २ न फल-विशेष (वस ५, २, २१) ।
 णीम पु [नीप] वृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड़ (परण १, औप, हे १, २३४) ।
 णीमम वि [निर्मम] ममत्व-रहित (अप्रभ १०६) ।
 णीमी देखो णीवी (कुमा, पड्) ।
 णीय वि [नीच] १ नीच, अधम, जघन्य (उवा, सुपा १०७) । २ वि अधस्तन (सुपा ६००) । 'गोय न [गोत्र] १ क्षुद्र गोत्र । २ कर्म-विशेष, जो क्षुद्र जाति में जन्म होने का कारण है (ठा २, ४, आचा) । ३ वि नीच गोत्र में उत्पन्न (सुत्र २, १) ।
 णीय वि [नीत्] ले जाया गया (आचा, उवा, सुपा ६) ।
 णीय देखो णिच्च = नित्य (उवा) ।
 णीयगम वि [नीचगम] नीचे जानेवाला (सुफ ४४३) ।
 णीयंगमा णी [नीचगमा] नदी, तरंगिणी (भत्त ११६) ।

णीर न [नीर] जल, पानी (कुमा, प्रासू ६७) ।
 णिहि पुं [निधि] समुद्र, सागर (सुपा २०१) । 'रूह न [रूह] कमल (ती ३) ।
 'वाह पु [वाह] मेघ, अन्न (उप ४६२) ।
 'हर पु [गृह] समुद्र, सागर (उप ४१६) ।
 'हि पु [धि] समुद्र (उप ६८६ टी) ।
 'कर पु [कर] समुद्र (उप ५३० टी) ।
 णीरगो खी [दे नीरङ्ग] सिर का अवयुगठन, शिरोवद्ध, घूँघट (हे ४, ३१, पात्र) ।
 णीरज सक [भञ्ज] तोड़ना, भंगना ।
 खीरजइ (हे ४, १०६) ।
 णीरजिअ वि [भग्ग] तोड़ा हुआ, टिन्न (कुमा) ।
 णीरव वि [नीरन्त्र] निरिच्छद (कप्पू) ।
 णीरण न [दे] घास, चारा, 'विमलो पजलमग्ग नीरिधणनीरणाइसजुत्त' (सुपा ५०१) ।
 णीरय नि [नीरजम्] १ रजो-रहित, निर्मल, शुद्ध, सिद्धि गच्छइ खीरसो' (सुत्र १६, परण ३६, सम १३७, पउम १०३, १३८, सार्व ११२) । २ पु ब्रह्म दत्ताक का एक अङ्ग (ठा ६) ।
 णीरव सक [आ + क्षिप्] आक्षेप करना ।
 खीरवइ (हे ४, १४५) ।
 णीरव सक [वुसुक्ष्] खाने को चाहना ।
 खीरवइ (हे ४, ५) । भूका खीरवोअ (कुमा) ।
 णीरव वि [आक्षेपक] आक्षेप करनेवाला (कुमा) ।
 णीरस वि [नीरस] रस-रहित शुष्क (गडड, महा) ।
 णीरसजल न [नीरसजल] श्याविल तप (सवोच ५८) ।
 णीराग } वि [नीराग] राग-रहित, नीतराग
 णीराय } (गडड, कुप्र १२५, कुमा) ।
 णीरेणु वि [नीरेणु] रजो-रहित, धूल रहित (गडड) ।
 णीरोग वि [नीरोग] रोग-रहित, तडुवस्त (जीव ३) ।
 णील अरु [निर + स्] बाहर निकलना ।
 खीलइ (हे ४, ७६) ।
 णील पुं [नील] १ हरा वर्ण, नीला रंग (ठा १) । २ महाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २,

३) । ३ रामचन्द्र का एक सुभट, वानर-विशेष (से ४, ५) । ४ छन्द विशेष (पिग) ।
 ५ पर्वत-विशेष (ठा २, ३) । ६ न रत्न की एक जाति, नीलम (आया १, १) । ७ वि हरा वर्णवाला (परण १, राय) । 'कठ पु [कण्ठ] १ शक्तेन्द्र का एक सेनापति, शक्तेन्द्र के महिप-सैन्य का अधिपति देव-विशेष (ठा ५, १, इक) । २ मयूर, मोर (पात्र, कुप्र २४७) । ३ महादेव, शिव (कुम २४७) । 'कणवीर पु [करवीर] हरे रंग के फूलवाला कनेर का पेड़ (राय) ।
 'गुफा खी [गुफा] जयान-विशेष (आवम) । 'मणि पुखी [मणि] रत्न-विशेष, नीलम, मरकत (कुमा) । 'लेस वि [लेदय] नील लेश्यावाला (परण १७) । 'लेसा खी [लेदया] अशुभ अव्यवसाय-विशेष (सम ११, ठा १) । 'लेस्स देखो 'लेस (परण १७) । 'लेस्सा देखो 'लेसा (राज) । 'वत्त पु [वत्त] १ पर्वत विशेष (ठा २, ३, गम २) । २ द्रव-विशेष (ठा ५, २) । ३ न शिखर-विशेष (ठा २, ३) ।

णील वि [नील] कच्चा पाट (आचा २, १, २, ३) । 'केसी खी [केशी] तखणी, युवति (वव ४) ।
 णीलवठी खी [दे] वृक्ष-विशेष, वाण-वृक्ष (हे ४, ४२) ।
 णीला खी [नीला] १ लेश्या-विशेष, एक तरह का आत्मा का अशुभ परिणाम (कम्म ४, १३, भग) । २ नीलवर्णवाली खी (पड्) ।
 णील्लिअ वि [लि मून] निर्गत, निर्पात (कुमा) ।
 णील्लिअ वि [नील्लिन] नील वर्ण का (उप ४ ३२) ।
 णील्लिआ देखो णीला (भा) ।
 णील्लिम पृखी [नील्लिम] नीलत्व, नीलापन, हरापन (सुपा १३७) ।
 णीली खी [नीली] १ वनस्पति विशेष, नील (परण १, उर ६, ५) । २ नील वर्णवाली खी (पड्) । ३ आँव का रोग (कुप्र २१३) ।
 णीलुञ्ज नक [छ] १ निपतन करना । २ आचट्टोदन करना । खोउ छइ (हे ८, ७६, पड्) । वड्ढ णीलुञ्जत (सुमा) ।

गिरवणाम देखो गिरोणाम (उव) ।

गिरवयक्ख देखो गिरवइक्ख (खाया १, ६, पउम २, ६३) ।

गिरवयव वि [गिरवयव] अवयव-रहित, निरश (विसे) ।

गिरवयास वि [गिरवकाश] अवकाश-रहित (गउड) ।

गिरवराह वि [गिरपराध] अपराध रहित, वेयुनाह (महा) ।

गिरवराहि वि [गिरपराधिन्] ऊपर देखो (आव ६) ।

गिरवलय वि [गिरवलम्ब] सहारा रहित, असहाय (पएह १, ३) ।

गिरवलाव वि [गिरपलाप] १ अपलाप-रहित । गुप्त बात को प्रकट नहीं करनेवाला, दूसरे को नहीं कहनेवाला (सम ५७) ।

गिरवसक वि [गिरपशाङ्क] दुःशका-वर्जित (भवि) ।

गिरवसर वि [गिरवसर] अवसर-रहित (गउड) ।

गिरवसाण वि [गिरवसान] अन्त-रहित (गउड) ।

गिरवसेस वि [गिरवशेष] सब, सकल (हे १, १४, पइ, से १, ३७) ।

गिरवह सक [गिर + वह] निर्वाह करना, निवाहना । गिरवहेजा (सबोव ३६) ।

गिरवाथ वि [गिरपाय] १ उपद्रव रहित, विघ्न वर्जित । २ निर्दोष, विशुद्ध (आ १६, सुपा २७५) ।

गिरविम्ब देखो गिरवइक्ख (आ ६, उव, गिरवेक्ख } पि ३४१, से ६, ७५, सूअ गिरवेच्छ } १, ६, पचा ४, निच्चू २०, नाट—नैत २५७) ।

गिरस सक [गिर + अस] अपास्त करना । गिरसह (मण) ।

गिरसण वि [गिरशन] आहार-रहित, उपोषित (उप, सुपा १२१) ।

गिरसण न [गिरसन] निराकरण, हटा देना, दूर करना, खडन (वेह्य ७२४) ।

गिरसि वि [गिरसि] खड्ग-रहित (गउड) ।

गिरसिअ वि [गिरस्त] परास्त, अपास्त (दे ५, ५६) ।

गिरस्साय वि [गिरास्वाद] स्वाद-रहित (उत्त १६, ३७) ।

गिरस्सावि वि [गिरास्साविन्] नहीं टपकने-वाला, छिद्र रहित । खो ^०णी (उत्त २३, ७१, सुख २३, ७१) ।

गिरहकार वि [गिरहकार] गर्ब-रहित (उव) ।

गिरहारि वि [गिराहारिन्] आहार-रहित, उपोषित; 'हणउ व वक्कलघारी, गिरहारी वभनेरवयघारी' (सुपा २५२) ।

गिराह्णरण वि [गिराधिकरण] अधिकरण-रहित, हिंसा-रहित, निर्दोष (पचा १६) ।

गिराह्णरणि वि [गिराधिकरणिन्] ऊपर देखो (भग १६, १) ।

गिराहिलास वि [गिराभिलाष] इच्छा-रहित, निरीह (गउड) ।

गिरहेउ वि [गिरहेतु, ^०क] निष्कारण, गिरहेउग } कारणरहित (धर्मस ४४३, गिरहेतुग } ४१७, ४००) ।

गिराइअ वि [गिरायत] लम्बा किया हुआ, विस्तारित (से ४, ५२, ७, ३६) ।

गिराउस वि [गिरायुप्] आयु-रहित (प्राङ्क ३१) ।

गिराउह वि [गिरायुध] आयुध-वर्जित, नि शस्त्र (महा) ।

गिराकर } सक [गिरा + कृ] १ निषेध गिरागर } करना । २ दूर करना, हटाना । ३ विवाद का फैसला करना । गिराकरिमो (कुम २१५) । सङ्क गिराकिच्च (सूअ १, १, १, ३, ३, १, ११) ।

गिराकरिअ वि [गिराकृत] निषिद्ध (धर्मनि १४६) ।

गिरागरण न [गिराकरण] गिरास, निवारण, निषेध, रोक (पंचा १७, १६) ।

गिरागरण न [गिराकरण] १ निषेध, प्रतिषेध (पंचा १७) । २ फैसला, निपटारा (स ४०६) ।

गिरागरियि वि [गिराकृत] हटाया हुआ, दूर किया हुआ (पउम ४६, ५१, ६१, ५६) ।

गिरागस वि [गिराकर्ष] निषेध, रोक (निचू २) ।

गिरागार वि [गिराकार] १ आकृति-रहित २ अपवाद-रहित (धर्म २) ।

गिराणठ वि [गिरानन्द] आनन्द-रहित, शोकातुर (महा) ।

गिराणिउ (अप) अ निश्चित, नक्की (कुमा) ।

गिराणुकप देखो गिरणुकप, 'गणिकवणिराणुकपो आगुरिय भावण कुणइ' (ठा, ४, ४), 'अह सो गिराणु कपो (सया ८४, पउम २६, २५) ।

गिराणुवत्ति वि [गिरणुवत्तिन्] १ अनुसरण नहीं करनेवाला । २ सेवा नहीं करनेवाला (उव) ।

गिराद वि [दे] नष्ट, विनाश-प्राप्त (दे ४, ३०) ।

गिराबाध } वि [गिराबाध] आबाधा-रहित, गिराबाह } हर्षकृत-रहित (अभि १११, सुपा २५३, ठा १० आव ४) ।

गिरामगध वि [गिरामगन्ध] दूषण रहित, निर्दोष चारित्रवाला (आचा: सूअ १, ६) ।

गिरामय वि [गिरामय] रोग-रहित, नीरोग (सुपा ५७५) ।

गिरामिस वि [गिरामिष] आसक्तिहीन, निरीह, निरभिषङ्ग, 'आमिसं सव्वमुज्झिता विहरिस्सामो गिरामिसा' (उत्त १४, ४६) ।

गिराय वि [दे] १ ऋजु, सरल । (दे ४, ५०, पाअ) । १ प्रकट, खुला । ३ पु. रिपु, शत्रु (दे ४, ५०) । ४ वि. लम्बा किया हुआ (से २, ४०) ।

गिराय वि [दे] अत्यन्त, प्रचुर, अधिक (सुख २, ७) ।

गिरायक वि [गिरातङ्क] आतङ्क-रहित, नीरोग (श्रीप) ।

गिरायरियि देखो गिरागरियि (पउम ६१, ४६) ।

गिरायव वि [गिरातप] आतप-रहित (गउड) ।

गिरायार देखो गिरागार (पउम ६, ११८) ।

गिरायास वि [गिरायास] परिश्रम-रहित (पएह २, ४) ।

गिरारभ वि [गिरारम्भ] आरम्भ-वर्जित (सुपा १४०, गउड) ।

गिरालव वि [गिरालम्ब] आलम्ब-रहित (गा ६५, आरा ८) ।

गीहम्म अक [निर + हम्म] निकलना ।
 गीहम्मइ (हे ४, १६२) ।
 गीहम्मिअ वि [निर्हम्मिअ] निर्गत, निस्त्यत
 (दे ४, ४३) ।
 गीहर अक [निर + ह्] वाहर निक-
 लना । गीहरइ (हे ४, ७९) । वक्क नीहरत
 (सुपा ४८२) । सक्क गीहरिअ (निचू ६) ।
 क्क गीहरियव्व (सुपा ५६०) ।
 गीहर अक [आ + क्रन्द] आक्रन्द करना,
 चिल्लाना । गीहरइ (हे ४, १३१) ।
 गीहर अक [निर + ह्व] प्रतिव्वनि
 करना । वक्क गीहरत, गीहरिअत (से ५,
 ११, २, ३१) ।
 गीहर सक [निर + सारय] वाहर निका-
 लना । हेक्क गीहरित्तए (भग ५, ४) । क्क
 गीहरियव्व (सुपा ४८२) ।
 गीहर अक [निर + ह्] पाखाना जाना,
 पुरीषोत्सर्ग करना । नीहरइ (हे ४, २५६) ।
 गीहरण न [निस्सरण, निर्हरण] १ निर्ग-
 मत्त, निर्गम, वाहर निकालना (विपा १, ३,
 राया १, १४) । २ परित्याग (निचू १) ।
 ३ अपनयन (सूय २, २) ।
 गीहरिअ देखो गीहर = निर + ह् ।
 गीहरिअ वि [नि स्त] निर्गत, निर्यात (सुर
 १, १५५, ३, ७५, पाअ) ।
 गीहरिअ वि [निर्हदित] प्रतिव्वनित (से
 ११, १२२) ।
 गीहरिअ न [दे] शब्द, आवाज, ध्वनि (दे
 ४, ४२) ।
 गीहरिअत देखो गीहर = निर + ह् ।
 गीहार पुं [नीहार] १ हिम, तुपार (अच्छु
 ७२, स्वप्न ५२, कुमा) । २ विष्ठा या मूत्र
 का उत्सर्ग (सम ६०) ।
 गीहारण न [निस्सारण] निष्कासन (अ २,
 ४) ।
 गीहारि वि [निर्हारि] १ निकलनेवाला ।
 २ फैलनेवाला, 'जोयणणीहारिणा सरेण'
 (भावम, सम ६०) ।
 गीहारि वि [निर्हदिन्] धोष करनेवाला,
 शू जनेवाला (अ १०, पि ४०५) ।
 गीहारिम देखो गिहारिम (अ २, ४, औप,
 राया १, १) ।

गीहास वि [निर्हास] हास-रहित (उत्त २२,
 २८) ।
 गीहूय वि [दे] अकिञ्चिक्कर, कुछ भी नहीं
 कर सकनेवाला, 'पवयणणीहूयाण' (आवनि
 ७८७) । देखो गिहूअ ।
 गु अ [तु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१
 व्यय ध्वनि । २ वक्रोक्ति (स ३४६) । ३
 वितर्क (सण) । ४ प्रश्न । ५ विकल्प । ६
 अनुनय । ७ हेतु, प्रयोजन । ८ अपमान । ९
 अनुताप, अनुशय । १० अपदेश, वहाना
 (गउड, हे २, २१७, २१८) ।
 गु अ [तु] १ निन्दासूचक अव्यय (वस २,
 १) । २ विशेष (सिदि ६५१) ।
 गुअ वि [ज्ञक] जानकार (गा ४०५) ।
 गुक्कार पुं [नुक्कार] 'नुक्' ऐसी आवाज
 (राय) ।
 गुज्जिय वि [दे] बन्द किया हुआ, मुद्रित,
 'कड्डिया णेण छुरिया, गुज्जियं से वयण,
 छिन्ना य हत्था' (स ५८६) ।
 गुत्त वि [नुत्त] १ प्रेरित । २ सिस, फँका
 हुआ (से ३, १५) ।
 गुम सक [नि + अस्] स्थापन करना ।
 गुमइ (हे ४, १६६) ।
 गुम सक [छाद्य] ढकना, आच्छादन
 करना । गुमइ (हे ४, २१) ।
 गुमज्ज अक [नि + सद्] बैठना । गुमज्ज
 (पह) ।
 गुमज्ज अक [नि + मस्ज] इबना ।
 गुमज्जइ (हे १, ६४) ।
 गुमज्ज अक [शी] सोना, सूतना । गुमज्जइ
 (प्राक्क ७४) ।
 गुमज्जण न [निमज्जन] इबना (राज) ।
 गुमण वि [निपण] बैठा हुआ, उपविष्ट
 (पह, हे १, १७४) ।
 गुमण } वि [निमग्न] हुवा हुआ, लीन
 गुमन्न } (हे १, ६४, १७४) ।
 गुमिअ वि [न्यस्त] स्थापित (कुमा) ।
 गुमिअ वि [छादित] ढका हुआ (कुमा) ।
 गुह् देखो गोह् । गुह्इ (पि २४४) ।
 गुवण वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ४,
 २५) ।

गुवण वि [निषण] बैठा हुआ, उपविष्ट
 (गउड, राया १, ५, स २४२), 'पासम्मि
 नुवणणा' (उप ६४८ टी) ।
 गुव सक [प्र = काशय] प्रकाशित
 करना । गुवइ (हे ४, ४५) । वक्क गुवत्त
 (कुमा) ।
 गुसा स्त्री [स्तुषा] पुत्र-वधू, पुत्र की भार्या
 (प्रयौ १०५) ।
 गुडर देखो गिडर = त्तुर (पह, हे १,
 १२३) ।
 गुण वि [न्यून] कम, ऊन (उप पु ११६) ।
 गुण } अ [नूनम्] इन अर्थों का सूचक
 गुण } अव्यय—१ निश्चय, अवधारण । २
 तर्क विचार । ३ हेतु, प्रयोजन । ४ उपमान ।
 ५ प्रश्न (हे १, २६, प्राप्र, कुमा; भग, प्राप्र
 १२, वृह १, आ १२) ।
 गुतण वि [नूतन] नया, नवीन (मन ३०) ।
 गुपुर देखो गुडर (चार ११) ।
 गुम सक [छाद्य] १ ढकना, छिपाना ।
 गुमइ (हे ४, २१) । गुमति (राया १,
 १६) । वक्क गुमत (गा ८५६) ।
 गुम न [दे] १ प्रच्छादन, छिपाना । २
 असत्य, झूठ (पणह १, २) । ३ माया, कपट
 (मम ७१) । ४ प्रच्छन्न स्थान, गुफा वगैरह
 (सूय १, ३, ३, भग १२, ५) । ५ अन्वकार,
 गाढ अन्वकार (राज) ।
 गुम न [दे] कर्म (सूय १, ३, ३, २) ।
 गिह न [गृह] भूमि-गृह (आचा २, ३,
 ३, १) ।
 गुमिअ वि [छादित] ढका हुआ, छिपाया
 हुआ, (से १, २, पाअ, कुमा) ।
 गुमिअ वि [दे] पोला किया हुआ (उप पु
 ३६३) ।
 गुला स्त्री [दे] शाखा, डाल (दे ४, ४३) ।
 जे अ पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता अव्यय (राज) ।
 जेअ देखो जे = जा ।
 जेअ देखो जी = नी ।
 जेअ वि [नैक] अनेक, बहुत (पउम ६४,
 ५१) । 'विह वि [विध] अनेक प्रकार का
 (पउम ११३, ५२) ।
 जेअ अ [नैव] नहीं ही, कदापि नहीं, कनी
 नहीं (से ४, ३०, गा १३६, गउड, सुर २,
 १८६, सण) ।

गिरुत्तिअ वि [नैरुत्तिक] व्युत्पत्ति के अनुसार जिसका अर्थ किया जाय वह शब्द (अणु) ।
 गिरुत्तिय न [नैरुत्तिक] निरुत्ति, व्युत्पत्ति, 'नो कत्यवि नाणित्ति निरुत्तियं चेइसहस्स' (सवोध—१२) ।
 गिरुदर वि [निरुदर] छोटा पेटवाला, अनुदर । स्त्री रा (परह १, ४) ।
 गिरुद्ध वि [निरुद्ध] १ रोकना हुआ (गाया १, १) । २ आवृत, आच्छादित (सूत्र १, २, ३) । ३ पु मत्स्य की एक जाति (कप्प) ।
 गिरुद्ध वि [निरुद्ध] थोडा, सक्षिप्त (सूत्र १, १४, २३) ।
 गिरुद्धञ्च } देखो गिरुभ ।
 गिरुद्धभत }
 गिरुलि पुञ्जी [दे] कुम्भीर—नरु की आकृति-वाला एक जन्तु (दे ४, २७) ।
 गिरुवकिट्टु देखो गिरुवकिट्टु (भग) ।
 गिरुवक्कम वि [निरुपक्कम] १ जो कम न किया जा सके वह (आणुष्य) (सुर २, १३२, सुपा २०४) । २ विघ्नरहित, अबाध, 'निय-निरुवक्कमविक्रमअकंठसमगारिउचक्को' (सुपा ३६) ।
 गिरुवक्कय वि [दे] अकृत, नही किया हुआ (दे ४, ४१) ।
 गिरुवक्किट्टु वि [निरुपक्किट्टु] क्लेश-वर्जित, दु खरहित (भग २५, ७) ।
 गिरुवक्केस वि [निरुपक्केस] शोक आदि क्लेशों से रहित (ठा ७) ।
 गिरुवक्ख वि [निरुपाय] शब्द से न कहा जा सके वह, अनिर्वचनीय (धम्मसं २४१, १३००) ।
 गिरुवग वि [निरुपक] प्रतिपादक (सम्मत्त १६०) ।
 गिरुवगारि वि [निरुपकारिन्] उपकार को नहीं माननेवाला, प्रत्युपकार नहीं करनेवाला (आत्रम) ।
 गिरुवगगह वि [निरुपग्रह] उपकार नहीं करनेवाला (ठा ४, ३) ।
 गिरुवट्टाणि वि [निरुपस्थानिन्] निरुत्तयी, आलसी (आचा) ।
 गिरुवद्व वि [निरुपद्रव] उपद्रव-रहित, आबाधा वर्जित (औप) ।

गिरुवम वि [निरुपम] असमान, असाधारण (औप, महा) ।
 गिरुवयरिय वि [निरुपचरित] वास्तविक, तथ्य (गाया १, ५) ।
 गिरुवयार वि [निरुपकार] उपकार-रहित (उव) ।
 गिरुवलेव वि [निरुपलेप] लेप वर्जित, अलिप्त (कप्प), 'रयणमिव गिरुवलेवा' (पउम १४, ६४) ।
 गिरुवसगम वि [निरुपसर्ग] १ उपसर्ग-रहित, उपद्रव-वर्जित (सुपा २८७) । २ पुं मोक्ष, मुक्ति (पडि, धर्म २) । ३ न उपसर्ग का अभाव (वव ३) ।
 गिरुवहय वि [निरुपहत] १ उपघात-रहित, अक्षत (भग ७, १) । २ रुकावट से शून्य, अप्रतिहत (सुपा २६८) ।
 गिरुवहि वि [निरुपधि] माया-रहित, निष्कपट (दसनि १) ।
 गिरुवार सक [ग्रह] ग्रहण करना । गिरु-वारइ (हे ४, २०६) ।
 गिरुवारिअ वि [गृहीत] उपात्त, गृहीत (कुमा) ।
 गिरुवालभ वि [निरुपालम्भ] उपालम्भ-शून्य (गउड) ।
 गिरुविवग्ग वि [निरुद्विग्रह] उद्वेग-रहित (गाया १, १—पत्र ६) ।
 गिरुस्साह वि [निरुस्साह] उत्साह-हीन (सूत्र १, ४, १) ।
 गिरुव सक [नि + रूपय्] १ विचार कर कहना । २ विवेचन करना । ३ देखना । ४ दिखलाना । ५ तलाश करना । निरुवेइ (महा) । वहु गिरुवित्त, निरुवमाण (सुर १५, २०५, कुप्र २७५) । सक गिरुविऊण (पचा ८) । क. गिरुवियञ्च (पचा ११) । हेऊ निरुविड (कुप्र २०८) ।
 गिरुवण न [निरुपण] १ विलोकन, निरीक्षण (उप ३३७) । २ वि दिखलानेवाला स्त्री. °णी (पउम ११, २२) ।
 गिरुवणया स्त्री [निरुपणा] निरूपण (उप ६३०) ।
 गिरुवाविअ वि [निरुपित] गवेपित, जिस की खोज कराई गई हो वह (स ५३६, ७४२) ।

गिरुविअ वि [निरुपित] १ देखा हुआ (से १३, १३, सुपा ५२३) । २ आलोचना कर कहा हुआ । ३ विवेचित, प्रतिपादित (हे २, ४०) । ४ दिखलाया हुआ । ५ गवेपित (प्राह) ।
 गिरुसुअ वि [निरुसुक] उत्कण्ठा-रहित (गउड) ।
 गिरुह पु [निरुह] अनुवासना-विशेष, एक तरह का विरेचन (गाया १, १३) ।
 गिरेय वि [निरैजस्] निष्कम्प, स्थिर (भग २५, ४) ।
 गिरेयण वि [निरैजन] निश्चल, स्थिर (कप्प, औप) ।
 गिरोणाम पुं [निरवनाम] नम्रता-रहित, गर्वित, उद्धत (उव) ।
 गिरोय वि [निरोग] रोग-रहित (औप, गाया १, १) ।
 गिरोय पु [दे] आदेश, आज्ञा, रुका (सुपा २२४) ।
 गिरोवयार वि [निरुपकार] उपकार को नहीं माननेवाला (ओध ११३ मा) ।
 गिरोवयारि वि [निरुपकारिन्] ऊपर देखो (उव) ।
 गिरोविअ देखो गिरुविअ (सुपा ४५६, महा) ।
 गिरोह पु [निरोध] रुकावट, रोकना (ठा ४, १, औप, पात्र) ।
 गिरोहग वि [निरोधक] रोकनेवाला (रंभा) ।
 गिरोहण न [निरोधन] रुकावट (परह १, १) ।
 गिलक पु [दे] पतद्ग्रह, पीकदान, छीवन-पात्र, धुकने का पात्र (दे ४, ३१) ।
 गिलय पुं [निलय] घर, स्थान, आश्रय (से २, २, गा ४२१, पात्र) ।
 गिलयण न [निलयन] वसति, स्थान (विसे) ।
 गिलाड न [गलाट] भाल, कपाल (कुमा) ।
 गिलिअ देखो गिरीअ । गिलिअइ (पड्) ।
 गिलित नीचे देखो ।
 गिलिज्ज } सक [नी + ली] १ आश्लेष करना,
 गिलीअ } मँटना, गले से लगाना । २ दूर करता । ३ अक छिप जाना । गिलिज्जइ गिली-अइ (हे ४, ५५) । गिलिज्जा (कप्प) । वहु.

पेवत्य न [नेपथ्य] १ वस्त्रादि की रचना, वेप की सजावट, नाटक आदि में परदे के भीतर का स्थान जिसमें नट-नटी नाना प्रकार का वेश सजाते हैं, रमशाला, नाट्यशाला (राया १, १)। २ वेप (विसे २५८७, सुर ३, ६२, सण, सुपा १५३)।

पेवत्यण न [दे] निरुद्ध, उत्तरीय वस्त्र का अन्वल (कुमा)।

पेवत्यिथि वि [नेपथ्यत] जिसने वेप-भूषा की हो वह, 'पुरिसनेवत्यिया' (विपा १, ३)।

पेवाइय वि [नैपातिक] निपात-निष्पन्न नाम, अव्यय आदि (विसे २८४०, मग)।

पेवाल पु [नेपाल] १ एक भारतीय देश, नेपाल (उप पृ ३६३, कुप्र ४५८)। २ वि नेपाल-देशीय, नेपाली (पञ्च ६६, ५५)।

पेवजि } न [नैवेद्य] देवता के आगे घरा
पेवेजि } हुआ अन्न आदि (स १२२, आ १६)।

पेव्वाण देखो णिव्वाण = निर्वाण (आचा, सुर ६, २०, स ७४४)।

पेव्बुदे देखो णिव्बुअ (उप ७३० टी)।

पेव्बुदे देखो णिव्बुइ (उप ४६८ टी)।

पेव्बुदे देखो णिसग्गिय (सुपा ६)।

पेसजि वि [नैपद्यि] आसन-विशेष से उपविष्ट (पव ६७, पचा १८)।

पेसजिअ वि [नैपद्यिक] ऊपर देखो (ठा ५, १, औप, परह २, १, कस)।

पेसस्थि पु [दे] वरिण् मन्त्री, वरिण् प्रधान (दे४, ४४)।

पेसस्थिया } स्त्री [नैसृष्टिकी, नैशस्त्रिकी]
पेसस्थी } १ निसर्जन, निक्षेपण। २ निसर्जन से होनेवाला कर्म-बन्ध (ठा २, १, नव १८)।

पेसप्प पु [नैसर्प] निधि विशेष, चक्रवर्ती राजा का एक देवाधिष्ठित निधान (ठा ६, उप ६८६ टी)।

पेसर पुं [दे] रवि, सूर्य (४, ४४)।

पेसाय देखो णिसाय = निपाद (राज)।

पेसु पुन [दे] १ ओष्ठ, ओठ, होठ। २ पाँव, 'तह निक्खवत्तमता कूवम्मि निहित्थेपुसुग (उप ३२० टी)।

पेह पुं [स्नेह] १ राग, अनुराग, प्रेम (पाप्र)। २ तैल आदि चिकना रस-पदार्थ। ३ चिकनाई, चिकनाहट (हे २, ७७, ४, ४०६, प्राप्र)।

पेहर देखो पेहर (परह १, १)।

पेहल पु [स्नेहल] छन्द-विशेष (पिग)।

पेहल वि [स्नेहल] स्नेही, स्नेह युक्त, 'पियराइ नेह्लाइ, अणुरत्ताओ गिहिणीओ' (धर्मवि १२५)।

पेहालु वि [स्नेहवत्] स्नेहयुक्त, स्निग्ध (हे २, १५६)।

पेहुर पुं [नेहुर] १ देश-विशेष, एक अनार्य देश। २ उसमें बसनेवाली अनार्य जाति (परह १, १—पत्र १४)।

पो अ [नो] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ निषेध, प्रतिषेध, अभाव (ठा ६, कस, गडड)। २ मिश्रण, मिश्रता, 'नोसद्दो मिस्सभावम्मि' (विसे ५०)। ३ देश, भाग, अश, हिस्ता (विसे ८८८)। ४ अन्धकारण विन्यय (राज)।

°आगम पु [आगम] १ धाम का अभाव। २ धाम के साथ मिश्रण। ३ धाम न एक अश (आवम, विसे ४६, ५०, ५१)। ४ पदार्थ का अपरिज्ञान (एदि)। 'इदिय न [इन्द्रिय] मन, अन्त करण, चित्त (ठा ६, सम ११, उप ५६७ टी)। 'कसाय पुं [कपाय] कपाय के उद्दीपक हास्य वगैरह नव पदार्थ, वे ये हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुहुप्सा, पुवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद (कम्म १, १७, ठा ६)। 'केवलनाण न [केवलज्ञान] अवधि और मन पर्यन्त ज्ञान (ठा २, १)।

°गार पु [कार] 'नो' शब्द (राज)। 'गुण वि [गुण] अर्थार्थ, अवास्तविक (अणु)। 'जीव पु [जीव] १ जीव और अजीव से भिन्न पदार्थ, अवस्तु। २ अजीव, निर्जीव। ३ जीव का प्रदेश (विसे)। 'तह वि [तथ] जो वैसा ही न हो (ठा ४, २)।

पो अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ खेद। २ आमन्त्रण। ३ विचित्रता। ४ चित्तकं। ५ क्रोप (प्राह ८०)।

पो पु [ट्ट] पुष्प, नर, 'पोवावाराभावम्मि अण्णहा खम्मि चेव उवत्तदो' (धर्मस १२५३, १२५६)।

पोक्क वि [दे] अनोपा, अपूर्व (पिग)।

पोगोण वि [नोगौण] अर्थार्थ (नाम) (अणु १४०)।

पोजुग न [नोयुग] न्यून युग (सुज्ज ११)।

पोदिअ देखो पोदिअ (राज)।

पोमलिआ स्त्री [नवमलिका] सुगन्धि फल-वाला वृक्ष-विशेष, नेवारी, वासंती (नाट, पि १५४)।

पोमलिआ स्त्री [नवमलिका] ऊपर देखो (हे १, १७०, गा २८१, पड, कुमा, अमि २६)।

पोमि पु [दे] रस्सी, रज्जु (दे ४, ३१)।
पोलइआ स्त्री [दे] चण्ड, चोच, चाँच (दे पोलइआ } ४, ३६)।

पोह सक [क्षिप्, नुद्] १ फेंकना। प्रेरणा करना। एल्लइ (हे ४, १४३, पड)। एल्लइ (गा ८७५)। कवक पोलिज्जत (सुर १३, १६६)।

पोलिअ वि [नोदित] प्रेरित (से ६, ३२, राया १, ६, परह १, ३, स ३४०)।

पोव्व पु [दे] आयुक्त, सूबा या सूबेदार राज-प्रतिनिधि (दे ४, १७)।

पोहल पु [लोहल] अव्यक्त शब्द-विशेष (पड पि २६०, सति ११)।

पोहलिआ स्त्री [नवफलिआ] १ ताजी फली, नवोत्पन्न फली (हे १, १७०)। २ नूतन फलवाली (कुमा)। ३ नूतन फल का उद्गम, 'एहोहलिअमण्णो कि ए मग्गसे, मग्गसे, कुव्वअस्स' (गा ६)।

पोहा स्त्री [स्तुपा] पुत्र की भार्या, पुत्रवधू, पत्नी, वधू (पि १४८, सति १५)।

°णअ वि [ज्ञर] जानकार (गा २०३)।

°णआस देखो णास = न्यास (स्वप्न १३४)।

°णुअ देखो °णअ (गा ४०५)।

एहं अ १-२ वाक्यालंकार और पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (कप्प, कम्)।

एहव सक [स्नपय्] नहलाना, स्नान कराना। एहवेइ (कुप्र ११७)। कवक एहविज्जत (सुपा ३३)। सक्क एहविज्जण (पि २१३)।

एहवण न [स्नपन] स्नान कराना, नहलाना (कुमा)।

एहविअ वि [स्नपित] जिसको स्नान कराया गया हो वह (सुर २, ५८, अवि)।

एहा } अक [स्ना] स्नान कराना, नहलाना।
एहाण } एहाइ (हे ४, १८)। एहाण्ण, एहाण्णति (पि ३१३)। अवि, एहास्स

गिबत्तय वि [निवर्त्तक] १ वापस आने-
वाला, लौटनेवाला । २ लौटानेवाला, वापस
करनेवाला (हे २, ३०, प्राप्) ।

गिबत्तिञ्जी [निवृत्ति] निवर्त्तन (उव) ।

गिबत्तिअ वि [निवर्त्तित] रोका हुआ, प्रति-
बिद्ध (स ३६४) ।

गिबत्तिअ वि [निवर्त्तित] निष्पावित, 'निव-
त्तिया सवपूया' (स ७६३) ।

गिबद्धि देखो गिबत्ति (संज्ञि ६) ।

गिबन्न देखो गिबण (स ७६०) ।

गिबय अक [नि + पत्] समाना, अन्तर्भूत
होना । निबयति (पव ८४ टे) ।

गिबय देखो गिबड । गिबइजा, गिबएजा
(कप्, ठा ३, ४) । वक्क गिबयत, गिबयमाण
(उप १४२ टी, सुर ४, ६५, कप्) ।

गिबय पु [निपात] नीचे गिरना, अघ-पतन
(सुर १३, १६७) ।

गिबरण पु [निवरण] वृक्ष-विशेष (उप
१०३१ टी) ।

गिबस अक [नि + वस्] निवास करना,
रहना । गिबसइ (महा) । वक्क गिबसत
(सुपा २२५) । हेक्क गिबसिड (सुपा
४६३) ।

गिबसण न [निवसन] वक्क, कपडा (अभि
१३६, महा, सुपा २००) ।

गिबसिय वि [निवसित] जिसने निवास
किया हो वह (महा) ।

गिबसिर वि [निवसित्] निवास करनेवाला
(गउड) ।

गिबह सक [गम्] जाना, गमन करना ।
गिबहइ (हे ४, १६२) ।

गिबह अक [नश] भागना, पलायन करना ।
गिबहइ (हे ४, १७८) ।

गिबह सक [पिप्] पीसना । गिबहइ (हे
४, १८५, पड) ।

गिबह पुन [निवह] समूह, राशि, जल्था (सि
२, ४२, सुर ३, ३५, प्राप् १४४), 'अच्छड
ता फलनिवह' (वजा १५२) ।

गिबह पुन [दे] समूह, वैभव (दे ४, २६) ।

गिबहअ वि [नट] नाश-प्राप्त (कुमा) ।

गिबहिअ वि [पिट] पीसा हुआ (कुमा) ।

गिबाइ वि [निपातिन्] गिरनेवाला (आचा) ।

गिबाड सक [नि + पातय] नीचे गिरना ।
गिबाडेइ (स ६६०) । वक्क गिबाडयंत (स
६८६) । सक गिबाडेइत्ता (जीव ३) ।

गिबाडिय वि [निपातित] नीचे गिराया हुआ
(महा) ।

गिबाडिर वि [निपातयित्] नीचे गिराने-
वाला (सण) ।

गिबाण न [निपान] कूप या तालाब के पास
पशुओं के जल पीने के लिए बनाया हुआ
जल-कुण्ड, चरही (स ३१२) । 'साला छो
[शाला] पशुओं का पानी पिलाने का स्थान
(महा) ।

गिबाय देखो गिबाड । गिबायइ (कुमा) ।
गिबाएजा (पि १३१) ।

गिबाय पु [दे] स्वेद, पसीना (दे ४, ३४,
सुर १२, ८) ।

गिबाय पु [निपात] १ पतन, अघ-पतन,
गिरना (गा २२२, सुपा १०३) । २ सयोग,
सबन्ध, 'दिट्टिगिबाआ ससिमुहीए' (गा १४८,
उत्त २, गउड) । ३ च, प्र आदि व्याकरण-
प्रसिद्ध अन्वय (परह २, २, सुपा २०३) ।
४ विनाश (पिड) ।

गिबाय वि [निवात] पवन-रहित, स्थिर
(परह २, ३, स ४०३, ७४३) ।

गिबायण न [निपातन] १ गिराना, निपा-
तन, ढाहना (परह १, २) । २ व्याकरण-
प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि, प्रकृति आदि के बिना
विभाग किये ही अखण्ड शब्द की निष्पत्ति
(विसे २३) ।

गिबार सक [नि + वारय] निवारण करना,
निषेध करना, रोकना । गिबारइ (उव, महा) ।
वक्क गिबारेंत (महा) । कक्क गिबारी-
अत, गिबारिज्जमाण (नाट—मुच्छ १५४,
१३५) । क्क गिबारियच्च, गिबारेयच्च
(सुपा ४८२, महा) ।

गिबारग वि [निवारक] निषेध करनेवाला,
रोकनेवाला (सुर १, १२६, सुपा ६३६) ।

गिबारण न [निवारण] १ निषेध, रूकावट
(भग ६, ३३) । २ शीत आदि को रोकनेवाला,
गृह, वक्क आदि, 'न मे निवारण अरिय,
छवित्ताण न विज्जइ' (उत्त २, ७) । ३ वि

निवारण करनेवाला, रोकनेवाला, 'उवसण-
निवारणो एसो' (अजि ३८) ।

गिबारय देखो गिबारग (उप ५३० टी) ।

गिबारि वि [निवारिन्] निवारक, प्रतिषेधक ।
छो 'रिणी (महा) ।

गिबारिय वि [निवारित] रोका हुआ, निषिद्ध
(भग, प्राप् १६६) ।

गिबास पु [निवास] १ निवसन, रहना ।
२ वास-स्थान, देवा (कुमा, महा) ।

गिबासि वि [निवासिन्] निवास करनेवाला,
रहनेवाला (महा) ।

गिबिअ देखो गिभिअ = न्यस्त (से १२, ३०) ।

गिविट्ठ देखो गिवट्ट = निवृत्त (सण) ।

गिविट्ठ वि [निविष्ट] १ स्थित, बैठा हुआ
(महा) । २ आसक्त, लीन (राज) ।

गिविट्ठि वि [निविष्ट] लब्ध, उपात्त, गृहीत
(ठा ५, २) । 'कप्पट्टिइ छो [कल्पस्थिति]
जैन साधुओं का एक तरह का आचार (ठा
५, २) ।

गिविड देखो गिविड (पड, हे १, २४०) ।

गिविडिअ देखो गिविडिय (गउड, पि
२४०) ।

गिवित्तिञ्जी [निवृत्ति] १ निवर्त्तन, उपरम,
प्रवृत्ति का अभाव (विसे २७६८, स १५४) ।
२ वापस लौटना, प्रत्यावर्त्तन (सुपा ३३२) ।

गिविद्ध वि [दे] १ सोकर उठा हुआ । २
निराश, हताश । ३ उद्धट । ४ नृशस, निर्दय
(दे ४, ४८) ।

गिविन्न वि [निर्विज्ञ] विशिष्ट ज्ञान से रहित
(तट्ट ५५) ।

गिविस अक [नि + विश] बैठना । वक्क,
गिविसत (आ १२) ।

गिविस (अप) देखो गिमिस (भवि) ।

गिविसिर वि [निवेष्ट] बैठनेवाला (सण) ।

गिवुच्चमाण वि [न्युद्धमाण] नीयमान, जो
ले जाया जाता हो वह (आचा २, ११, ३) ।

गिवुद्ध वि [निवृष्ट] बरसा हुआ (आचा २,
४, १, ४) ।

गिवुद्ध सक [नि + वर्धय] १ त्याग
करना, छोड़ना । २ हानि करना । वक्क
गिवुद्धमाण (सुज १, १) । संक्क गिवु-
द्धिता (सुज १) ।

तं अ [तत्] इन अर्थों को बतलानेवाला
अव्यय—१ कारण, हेतु (भग १५) । २
वाक्य उपन्यास, 'तं तिम्रसवदिमोक्त्वा' (हे २,
१७६, पङ्), 'तं मरणमणारभे वि होइ,
लच्छो उण न होइ' (गा ४२) । °जहा अ
[अथा] उदाहरण-प्रदर्शक अव्यय (भाषा,
अणु) ।

तंआ देखो तथा = तदा (गडड) ।

तंट न [दे] पृष्ठ, पीठ (दे ५, १) ।

तंड न [दे] लगाम में लगी हुई तार । २ वि
मस्तक-रहित । ३ स्वर से अधिक (दे ५,
१६) ।

तडव (अप) देखो तडुव । तडवहु (भवि) ।

तडव अक [ताण्डवय्] तुल्य करना । तड-
वैति (भावम) ।

तडव न [ताण्डव] १ नृत्य, उद्धत नाच (पाभ,
जीव ३, सुपा ८६) । २ उद्धताई, 'पासंदिंतुं-
डअइचडतडवाडवरोहे कि मुद्ध' (धम्म ८ टी) ।

तडविय वि [ताण्डवित] नचाया हुआ,
नर्तित (गडड) ।

तडविय (अप) देखो तडुविअ (भवि) ।

तडुल पुं [तण्डुल] चावल (गा ६६१) ।
देखो तंडुल ।

तत न [तन्न] १ देश, राष्ट्र (सुर १६, ४८) ।
२ शास्त्र, सिद्धान्त (उवर ५) । ३ दर्शन, मत
(उप ६२२) । ४ स्वदेश-चिन्ता । ५ विप का
श्रीपथ विशेष (सुत्रा १०८) । ६ सूत्र, ग्रन्थाश-
विशेष, 'सुत्त अणियं ततं अणिज्जप तम्मि
व जमत्थो' (विसे) । ७ विद्या-विशेष (सुपा
४६६) । °न्तु वि [°ज्ञ] तन्न का जालकार
(सुपा ५७६) । °वाइ पु [°वादिन्] विद्या-
विशेष से रोग आदि को मिटानेवाला (सुपा
४६६) ।

तत वि [तान्त] खिन्न, क्लान्त (आया १, ४,
विपा १, १) ।

ततडी छी [दे] करम्ब, वही और चावल का
बना भोजन-विशेष (दे ५, ४) ।

ततवग } पु [तान्त्रयक] चतुरिन्द्रिय जतु
ततवय } को एक जाति (सुख ३६, १४६,
उत्त ३६, १४६) ।

ततिय पु [तान्त्रिक] वीणा बजानेवाला
(पणु) ।

ततिसम न [तन्त्रीसम] तन्त्री-शब्द के तुल्य
या जमसे मिला हुआ गीत, गेय काव्य का
एक भेद (वसनि २, २३) ।

तती छी [तन्त्री] १ वीणा, वाद्य-विशेष
(कप्प, श्रौप, सुर १६, ४८) । २ वीणा-
विशेष (पणु २, ५) । ३ ताँत, जमडे की
रस्सी (विपा १, ६, सुर ३, १३७) ।

तती छी [दे] चिन्ता, 'कामस्त तत्तर्तति'
(गा २) ।

तंतु पुं [तन्तु] सूत, तागा, धागा (पजम १,
१३) । °अ, °ग पु [°क] जलजन्तु-विशेष
(पजम १४, १७, कुप्र २०६) । °ज, °य न
[°ज] शूती कपडा (उत्त २, ३५) । °वाय
पु [°वाय] कपडा बुननेवाला, जुलाहा (आ
२३) । °साला छी [°शाला] कपडा बुनने
का घर, ताँत-घर (भग १५) ।

ततुक्खोडी छी [दे] तन्तुवाय का एक उप-
करण (दे ५, ७) ।

तदुल देखो तडुल (पजम १२, १३८) । २
मत्स्य-विशेष (जीव १) । °वेयालिय न
[°वैचारिक] जैन ग्रन्थ-विशेष (एदि) ।

तदुत्तेज्जग पु [तन्दुलीयक] वनस्पति विशेष
(पणु १) ।

तदूसय देखो तिटूसय (सुर १३, १६७) ।
तव पुं [स्वाम्ब] वृणादि का गुच्छा (हे २,
४५, कुमा) ।

तव न [ताम्र] १ धातु-विशेष, ताँवा (विपा
१, ६, हे २, ४५) । २ पु वर्ण-विशेष ।
३ वि. अक्षय वर्णवाला, लाल (पणु १७,
श्रौप) । °चूल पु [°चूड] कुक्कुट, मुर्गा (सुर ३,
६१) । °वणी छी [°वणी] एक नदी का
नाम (कप्प) । °सिह पुं [°शिख] कुक्कुट,
मुर्गा (पाभ) ।

तवकरोड पुन [दे] ताम्र वर्णवाला द्रव्य-
विशेष (पणु १७) ।

तवकिसि पुं [दे] कीट-विशेष, इन्द्रगोप (दे
५, ६, पङ्) ।

तवकुसुम पुं [दे] वृक्ष-विशेष, कुम्बक,
कटनरैया (दे ५, ६, पङ्) ।

तवक न [दे] वायु-विशेष, 'अणाहयनं वक्केतु
वज्जेतु' (ती १५) ।

तंवच्छिद्ययाडिया छी [दे] ताम्र वर्ण का
द्रव्य-विशेष (पणु १७) ।

तंवटकारी छी [दे] शोफालिका, पुष्प प्रधान
लता-विशेष (दे ५, ४) ।

तवरत्ती छी [दे] गेहूँ में कुकुम की छाया (दे
५, ५) ।

तंवा छी [दे] गौ, धेनु, गैया (दे ५, १, गा
४६०, पाभ, वज्जा ३४) ।

तवाय पु [तामाक] भारतीय आम-विशेष
(राज) ।

तविय पुली [ताम्रत्व] अक्षयता, ईषद रक्तता
(गडड) ।

तविय न [ताम्रिक] परित्राणक का पहनने
कर एक उपकरण (श्रौय) ।

तविर वि [दे] ताम्र वर्णवाला (हे २, ५६,
गडड, भवि) ।

तविरा [दे] देखो तवरत्ती (दे ५, ५) ।

तवुक्क न [दे] वाद्य-विशेष, 'बुक्कतबुक्कसदुक्कड'
(सुपा ५०) ।

तवरेम पु [स्तम्बेरम] हस्ती, हाथी (उप ५
१७७) ।

तवेही छी [दे] पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष,
शोफालिका (दे ५, ४) ।

तवोल न [ताम्बूल] पान (हे १, १२४,
कुमा) ।

तवोलिअ पु [ताम्बूलिक] १ तमोली, पान
बेचनेवाला (आ १२) । २ पान में होनेवाला
तवोलिआ नाग ।

तवोली छी [ताम्बूली] पान का गाछ (पङ्,
जीव ३) ।

तभ देखो थंभ (पङ्) ।

तस पुं [त्र्यश] तीसरा हिस्सा (पच ५, ३७,
३६, कम्म ५, ३४) ।

तंस वि [त्र्यस] त्रि कोण, तीन कोनवाला
(हे १, २६, गडड, ठा १, गा १०, पाभ,
भाचा) ।

तफ सक [तर्क] तर्क करना, अनुमान
करना, अटकल करना । तस्केमि (मे १३) ।

सठ. तक्कियाण (धाचा) ।

तफ न [तक्र] मट्टा छाछ (श्रीप ८७, सुपा
५८३ उप ५ ११६) ।

गिञ्जरइ (हे ४, ३) । भुका गिञ्जरही (कुमा) । कर्म

‘कह तम्मि निञ्जरिञ्जइ,
दुख कहुणुएण हिअएण ।

अहाए पडिबिबं व, जम्मि
दुख न सकमइ (स ३०६) ।

गिञ्जर सक [छिइ] छेदन करना, काटना ।

गिञ्जरइ (हे ४, १२४) ।

गिञ्जरण न [कथन] दु ख-निवेदन (गा २५५) ।

गिञ्जरिअ वि [छिअ] काटा हुआ, खरिडत (कुमा) ।

गिञ्जल सक [सुच] दु ख को छोडना ।
गिञ्जलेइ (हे ४, ६२) ।

गिञ्जल अक [निर + पद्] निष्पन्न होना, सिद्ध होना, बनना । गिञ्जलेइ (हे ४, १२८) ।

गिञ्जल देखो गिञ्जल = क्षर । गिञ्जलेइ (हे ४, १७३ टि) ।

गिञ्जल देखो गिञ्जल = भू । वक्क गिञ्जलत, गिञ्जलमाण (से १, ३६, ७, ४३) ।

गणवलिअ वि [दे] १ जल-स्रोत, पानी से घोया हुआ । २ प्रविगणित । ३ विघटित, विभुक्त (दे ४, ५१) ।

गिञ्जव सक [निर + घापय] ठढा करना, बुझाना । गिञ्जवेहि (स ४५५) । गिञ्जवसु (काल) । वक्क गिञ्जवसत (सुपा २२५) । क गिञ्जवियञ्ज (सुपा २६०) ।

गिञ्जवण न [निर्वापण] १ बुझाना, शान्त करना । २ वि शान्त करनेवाला, ताप को बुझानेवाला (सुर ३, २३७) ।

गिञ्जविअ वि [निर्वापित] बुझाया हुआ, ठढा किया हुआ (गा ३१७, सुर २, ७४) ।

गिञ्जह अक [निर + वह] १ निभना, निर्वाह करना, पार पडना । २ आजीविका चलाता । गिञ्जहइ (स १०५, वज्जा ६) । कर्म गिञ्जहइ (पि ५४१) । वक्क गिञ्जहइ (आ १२, कुप्र ३३) । क गिञ्जहियञ्ज (कुप्र ३७५) ।

गिञ्जह सक [उद् + वह] १ बाराय करना । २ ऊपर उठाना । गिञ्जहइ (पड) ।

गिञ्जहण न [निर्वहण] निर्वह, अन्त, नाटक की एक सवि (सुपा १७५, कुप्र ३७५) ।

गिञ्जहण न [दे] विवाह, शादी (दे ४, ३६) ।

गिञ्जा अक [वि + श्रम्] विश्राम करना । गिञ्जाइ (हे ४, १५६) । वक्क गिञ्जाअत (से ८, ८) ।

गिञ्जाघाइम वि [निर्व्याघातिम] व्याघात-रहित, स्थलना-रहित (श्रीप) ।

गिञ्जाघाय वि [निर्व्याघात] १ व्याघात-वर्जित (खाया १, १, भग, कप्य) । २ न व्याघात का अभाव (पण २) ।

गिञ्जाघाया वी [निर्व्याघाता] एक विद्या-देवी (पउम ७, १४५) ।

गिञ्जाण न [निर्वाण] १ मुक्ति, मोक्ष, निर्द्वंति (विसे १६७५) । २ सुख, चैन, शान्ति, दु ख-निर्द्वंति, ‘निउणमणो निञ्जाण सुदरि नित्ससय कुणइ’ (उप ७२८ टी, पउम ४६, १६) । ३ बुझाना, विघ्यापन (आव ४) । ४ वि बुझा हुआ, ‘जह दीवो गिञ्जाणो’ (विसे १६६१, कुप्र ५१) । ५ पुं ऐरवत वर्ष में होनेवाले एक जिन-देव का नाम (सम १५४) ।

गिञ्जाण न [निर्वाण] वृत्ति (वस ५, २, ३८) ।

गिञ्जाण न [दे] दु ख-कथन (दे ४, ३३) । गिञ्जाणि पु [निर्वाणिन्] भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पणी-काल में संजात एक जिन-देव (पव ७) ।

गिञ्जाणी वी [निर्वाणी] भगवान् श्री शान्तिनाथ की शासन-देवी (सति १, १०) ।

गिञ्जाय वि [निर्वाण] बीता हुआ, व्यतीत (से १४, १४) ।

गिञ्जाय वि [विश्रान्त] १ जिसने विश्राम किया हो वह (कुमा) । २ सुखित, निर्द्वंति (से १३, २३) ।

गिञ्जाय वि [निर्वात] बाधु-रहित (खाया १, १, श्रीप) ।

गिञ्जालिय वि [भावित] धृक् किया हुआ (से १४, ५४) ।

गिञ्जाव देखो गिञ्जव । गिञ्जावेमि (स ३५२) । संक गिञ्जाविकुण (निद्व १) ।

गिञ्जाव पु [निर्वाप] वी, शाक आदि का परिमाण (निद्व १) । ‘कहा वी [कथा] एक तरह की भोजन कथा (ठा ४, २) ।

गिञ्जावइत्तअ (श्री) वि [निर्वापयित्क] ठढा करनेवाला (पि ६००) ।

गिञ्जावण न [निर्वापण] बुझाना, विघ्यापन (वस ४) ।

गिञ्जावणा न [निर्वापणा] बुझाना, ठढा करना, उपशान्ति (गउड) ।

गिञ्जावय वि [निर्वापक] आग बुझानेवाला (सूप्र १, ७, ५) ।

गिञ्जाविय वि [निर्वापित] ठढा किया हुआ (खाया १, १, वस ५, १) ।

गिञ्जासण न [निर्वासन] देश निकाला (स ५३५, कुप्र ३४३) ।

गिञ्जासणा वी [निर्वासना] ऊपर देखो (पउम ६६, ४१) ।

गिञ्जाह पु [निर्वाह] १ निभाना, पार-प्राप्ति । २ आजीविका, जीवन-सामग्री, ‘निञ्जाह किपि दाउ व’ (सुपा ४८८) ।

गिञ्जाहग वि [निर्वाहक] निर्वह करने-वाला (रमा) ।

गिञ्जाहण न [निर्वाहण] १ निर्वह, निभाना (सुपा ३६४) । २ निस्सार करना (राज) ।

गिञ्जाहिअ वि [निर्वाहित] अतिवाहित, विताया हुआ, गुजारा हुआ (से ६, ४२) ।

गिञ्जाहिअ वि [निर्व्याधिक] व्याधि-रहित, नीरोग (से ६, ४२) ।

गिञ्जिअप देखो गिञ्जिगप (सम्म ३३) ।

गिञ्जिआर वि [निर्विकार] विकार-रहित (गा ५०६) ।

गिञ्जिइअ वि [निर्विकृतिक] १ दृष्ट आदि विकृति-जनक पदार्थों से रहित (श्रीप) । २ न प्रत्याख्यान-विशेष, जिसमे दृष्ट आदि विकृतियों का ध्यान किया जाता है (पव ४, पंचा ५) ।

गिञ्जिइगिच्छ वि [निर्विचिकित्स] फल-प्राप्ति में शका-रहित (कस, धर्म २) ।

गिञ्जिइगिच्छ न [निर्विचिकित्स्य] फल-प्राप्ति में सन्देह का अभाव (उत्त २८) ।

तडकडिअ वि [दे] अनवस्थित (पद्) ।

तडकार पु [तटकार] चमकारा, 'तडित-
डकारो' (सुपा १३३) ।

तडतडा अक [तडतडाय्] तड-तड आवाज
होना । वक्र तडतडत, तडतडत, तड-
तडयत (राज, राया १, ६, सुपा १७६) ।

तडतडा स्त्री [तडतडा] तड-तड आवाज (स
२५७) ।

तडफड } अक [दे] तडफना, छटपटाना,
तडफड } तडफडाना, व्याकुल होना । तड-
फडइ (कुमा, हे ४, ३६६, विवे १०२) ।
तडफडसि (सुर ३, १४८) । वक्र तडफडत,
डतफडंत (उप ७६८ टी, सुर १२, १६४,
सुपा १७६, कुप्र २६) ।

तडफडिअ वि [दे] १ सब तरफ मे चलित,
तडफडाय हाहा, व्याकुल (दे ५, ६, स
५८६) ।

तडमड वि [दे] क्षुभित, क्षोभ प्राप्त (दे ५,
७) ।

तडयड वि [दे] क्रिया-शील, सदाचार-युक्त
(सट्टि १०७) ।

तडयडत देखो तडतडा ।

तडयडा स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, आउली का
पेड (दे ५, ५) ।

तडाअ } न [तडाग] तालाब, सरोवर (गा
तडाग } ११०, पि २३१, २४०) ।

तडि स्त्री [तडित्] विजली (पाम्र) । °डड
पु [°दण्ड] विद्युद्द (महा) । °केस पु
[°केश] राक्षस वशीय एक राजा, एक लका-
पति (पउम ६, ६६) । °वेअ पु [°वेग]
विद्यावर चश का एक राजा (पउम ५,
१८) ।

तडिअ वि [तत] विस्तृत, फैला हुआ (पाम्र,
राया १, ८—पत्र १३३) ।

तडिआ स्त्री [तडित्] बीजली (प्रामा) ।

तडिण वि [दे] विरल, अत्यल्प (ने १३,
५०) ।

तडिणी स्त्री [तटिनी] नदी, तरंगिणी
(सण) ।

तडिम न [तडिम] १ भित्ति, भीत । २ कुट्टिम,
पायाण्य आरि मे बंधा हुआ भूमितल (से २,

२) । ३ द्वार के ऊपर का भाग (से १२,
६०) ।

तडी स्त्री [तटी] तट, किनारा (विपा १, १,
अनु ६) ।

तड्डु } सक [तन्] १ विस्तार करना । २
तड्डुय } करना । तड्डु, तड्डुवड (हे ४, १३७) ।
भूका—तड्डुवीम (कुमा) ।

तड्डुविअ } वि [तत] विन्तीण, फैला हुआ
तड्डुविअ } (पाम्र, महा, कुमा, सुर ३,
७२) ।

तड्डु स्त्री [तट्टु] काठ की करछी (प्राक
२०) ।

तण सक [तन्] १ विस्तार करना । २
करना । तणइ, तणए (पद्) । कर्म तणि-
णए (विसे १३८३) ।

तण न [दे] उत्पल, कमल (दे ५, १) ।

तण न [तृण] तृण, घास (पाम्र, जव) । °इल्ल
वि [°वत्] तृणवाला (गडड) । °जीवि
वि [°जीविन्] घास खाकर जीनेवाला (सुपा
३७०) °राय पु [°राज] ताल-वृक्ष, ताड
का पेड (गडड) । °विंटय, °वेंटय पु
[°वृन्तक] एक सुदृ जनु-जाति, शीन्द्रिय
जन्तु-विशेष (राज) ।

तणग वि [तृणक] तृण का बना हुआ
(आचा २, २, ३, १४) ।

तणय पुं [तनय] पुत्र, लडका (सुपा २४७,
४२४) ।

तणय वि [दे] सवन्वी, 'मह तणए' (सुर ३,
८७, हे ४, ३६१) ।

तणयमुद्दिआ स्त्री [दे] अशुलीयक, अशूठी
(दे ५, ६) ।

तणया स्त्री [तनया] लडकी, पुत्री (कुमा) ।

तणरासि } वि [दे] प्रसारित फैलाया
तणरासिअ } हुआ (दे ५, ६) ।

तणवरडी स्त्री [दे] लडुप, डोंगी, छोटी नोका
(दे ५, ७) ।

तणसोहि } स्त्री [दे] १ मन्त्रिका, पुष्प-
तणसोहिआ } प्रधान वृक्ष-विशेष (दे ५, ६,
राया १, १६) । २ वि तृण-शून्य (पद्) ।

तणहार } पु [तृणहार] १ शीन्द्रिय जन्तु
तणहारय } की एक जाति (उत्त ३६,
१३८) । २ वि. घाम काटकर वेचनेवाला,
घनियारा (अणु १४६) ।

तणिअ वि [तत] विन्तीण, फैला हुआ
(कुमा) ।

तणु वि [तनु] १ पतना (जी ७) । २ कृश,
दुर्बल (पचा १६) । ३ अल्प, थोडा (दे ३,
५१) । ४ लघु, छोटा (जीव ३) । ५ सूक्ष्म
(कम्प) । ६ स्त्री शरीर, काय (दे २, ५६,
जी ८) । °नणुई, तणु स्त्री [°तन्नी]
ईषध्याग्भारा-नामक पृथ्वी (ठा ८, इक) ।
°पज्जत्ति स्त्री [°पर्याप्ति] उत्पन्न होते समय
जीव द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गलो को शरीर
रूप मे परिणत करने की शक्ति (कम्म ३,
१२) । °भव वि [°ज्द-भव] १ शरीर मे
उत्पन्न । २ पु लडका (भवि) । °भवया स्त्री
[°उद्भवया] लडकी (भवि) । °भू पुस्त्री
[°भू] १ लडका । २ लडकी (आक) । °य
वि [°ज] देखो °भव (उत्त १४) । °रुह
पुन [°रुह] १ केश, बाल (रमा) । २ पु-
पुत्र, लडका (भवि) । °वाय पु [°वात]
सूक्ष्म वायु-विशेष (ठा ३, ४) ।

तणुअ वि [तनुक] ऊपर देखो (पउम १६,
७, आच ५, भग १५, पाम्र) ।

तणुअ सक [तनय्] १ पतला करना । २
कृश करना, दुर्बल करना । तणुएइ (गा ६१,
काप्र १७४) ।

तणुआ } अक [तनुकाय्] दुर्बल होना,
तणुआअ } कृश होना । तणुआइ, तणुआ-
अइ, तणुआअए (गा ३०, २६२, ५६) वक्र-
तणुआअत (गा २६८) ।

तणुआअरअ वि [तनुअरअक] कृशना
उपजानेवाला, दीर्घल्य-जनक (गा ३४८) ।

तणुइअ वि [तनूकृत] दुर्बल किया हुआ,
कृश किया हुआ (गा १२२, पउम १६, ४) ।

नणुई स्त्री [नन्वी] १ पृथ्वी विशेष, सिद्ध-
शिला (मम २२) । २ पतना शरीरवाली,
कृशानी, कोमलांगी स्त्री (पद्) ।

तणुईकय वि [तनूकन] पतला किया हुआ
(पाम्र) ।

तणुग देवो तणुअ (ज २, ३) ।

तणुज देवो तणुअ (धर्मवि १०८) ।

तणुजम्म पु [तनुजम्मन] पुत्र, तणुअ
(धर्मवि १४८) ।

तणुभव देवो नणु डभव (धर्मवि १४२) ।

गिन्वेअ पु [निर्वेद] मुक्तिकी इच्छा (सम्मत १६६) ।
 गिन्वेअ पु [निर्वेद] १ खेद, विरक्ति (कुमा, द्र ६२) । २ ससार की निरुत्पत्ता का अन्व-धारण—निश्चय (ज्ञान) करना (उप ६८६) ।
 गिन्वेअण न [निर्वेदन] १ खेद, वैराग्य । २ वि वैराग्यजनक । स्त्री ँणी (ठा ४, २) ।
 गिन्वेदु सक [निर् + वेष्टय्] १ नाश करना, क्षय करना । २ घेरना । ३ वाधना । वहु गिन्वेदुत्त (विसे २७४५, आचा २, ३, २) ।
 गिन्वेद सक [निर् + वेष्टय्] त्याग करना । गिन्वेदेइ (सुज्ज २, १) ।
 गिन्वेद सक [निर् + वेष्टय्] मजबूती से वेष्टन करना । गिन्वेदिअ, गिन्वेदेअ (आचा २, ३, २, पि ३०४) ।
 गिन्वेद वि [दे] नग्न, नगा (दे ४, २८) ।
 गिन्वेद देखो गिन्वेअ (उत्त २६, २) ।
 गिन्वेर वि [निर्वै] वैर-रहित (अञ्जु ५६) ।
 गिन्वेरिस वि [दे] १ निर्दय, निष्करुण । २ अत्यन्त, अचिक (दे ४, ३७) ।
 गिन्वेस अक [निर् + वेष्ट] फुरना, सत्य ठहरना, सावित होना । गिन्वेसइ (पि १०७) ।
 गिन्वेसिअ वि [निर्वेसित] प्रस्फुरित, स्फूर्ति-युक्त (से ११, १६) ।
 गिन्वेस वि [निर्वेस] द्वेष-रहित (से १५, ६५) ।
 गिन्वेस पु [निर्वेश] १ लाभ, प्राप्ति (ठा ५, २) । २ व्यवस्था, 'कम्माण कप्पिआण काही कामतरेसु को गिन्वेस' (अञ्जु १८) ।
 गिन्वेहणिया स्त्री [निर्वेधनिका] वनस्पति-विशेष (सुप्र २, ३, १६) ।
 गिन्वेठअ वि [निर्वेठअ] निर्वाह-योग्य, वहन करते योग्य, निभाने लायक (आच ४) ।
 गिन्वेठ सक [कृ] क्रोध से होठ को मलिन करना । गिन्वेठलन (हे ४, ६६) ।
 गिन्वेठलण न [करण] क्रोध से होठ को मलिन करना (कुमा) ।
 गिसं देखो गिसा (कुमा, पउम १२, ६५) ।
 गिस सक [नि + अस] स्थापन करना । गिसेइ (श्रीप) ।

गिसत वि [निशान्त] १ श्रुत, सुना हुआ (शाया १, १, ४, उवा) । २ अत्यन्त ठढा (आचम) । ३ रात्रि का अन्वसान, प्रभात, 'जहा गिसेते तवणच्चिमात्ती, पभासई केवल-भारह तु' (वस ६, १, १४) ।
 गिसस वि [नृशस] क्रूर, निर्दय (सुपा ४०६) ।
 गिसग्ग पुं [निसर्ग] १ स्वभाव, प्रकृति (ठा २, १, कुप्र १४८) । २ निसर्जन, त्याग (विसे) ।
 गिसग्ग वि [नैसर्ग] स्वभाव से होनेवाला, स्वाभाविक (सुपा ६४८) ।
 गिसग्ग न [नैसर्ग] जात्यन्व की तरह स्वभाव से अज्ञता (सुप्र २, ३, १६) ।
 गिसगिगय वि [नैसर्गिक] स्वाभाविक (सण) ।
 गिसज्ज पु. देखो गिसज्जा 'निसज्जे वियड-णाए' (वव १) ।
 गिसज्जा स्त्री [निपद्या] १ आसन (वस ६) । २ उपवेशन, बैठना (वव ४) । देखो गिसिज्जा ।
 गिसट्ट वि [निसट्ट] १ निकाला हुआ, त्यक्त १, १६) । २ दत्त, दिया हुआ (शाया १, १—पत्र ७१) ।
 गिसट्ट वि [दे] प्रचुर, बहुत (श्रीप ८७) ।
 गिसट्ट (अप) वि [निपण] बैठा हुआ (सण) ।
 गिसड पु [निषध] १ हरिवर्ष क्षेत्र से उत्तर में स्थित एक पर्वत (ठा २, ३) । २ स्वनाम-ख्यात एक वानर, राम सैनिक (से ४, १०) । ३ वैल, साँड (सुज ४) । ४ बलदेव का एक पुत्र (निर १, ५, कुप्र ३७२) । ५ देश-विशेष । ६ निषध देश का राजा (कुमा) । ७ स्वर-विशेष (हे १, २२६, प्राप्र) । °कूड न [°कूट] निषध पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३) । °दह पु [°द्रह] द्रह-विशेष (ज ४) ।
 गिसण वि [निपण] १ उपविष्ट, स्थित (गा १०८, ११६, उत्त २०) । २ कायोत्सर्ग का एक भेद (आच ५) ।
 गिसण वि [नि सज] सजा रहित (से ६, ३८) ।
 गिसत्त वि [दे] सजुट, सतोप-युक्त (दे ४, ३०) ।

गिसन्न देखो गिसण (उव, शाया १, १) ।
 गिसम सक [नि + समय] सुनना । वहु गिसमेत (आचम) । कवकु गिसम्मत्त (गउड) सहु. गिसमिअ, गिसम्म (नाट, वेणी ६८, उवा: आचा) ।
 गिसमण न [निशमन] श्रवण, आकर्णन (हे १, २६६, गउड) ।
 गिसम्म अक [नि + मद्] १ बैठना । २ सोना, शयन करना । गिसम्मउ (से ६, १७) । हेक गिसम्मिउ (से ५, ४२) ।
 गिसर देखो गिसिर कवकु निसरिज्जमाण (भग) ।
 गिसरु देखो गिसरु (आ ४०) ।
 गिसह देखो गिसह (इक) ।
 गिसह देखो गिसह (पड) ।
 गिसह सक [नि + सह] सहन करना । गिसहइ (प्राक ७२) ।
 गिसा स्त्री [निशा] अन्वकारवाली नरक-भूमि (सुप्र १, ५, १, ५) ।
 गिसा [निशा] १ रात्रि, रात (कुमा: प्राप् ५५) । २ पीसने का पत्थर, शिलीट, सिलवट (उवा) । °अर पु [°कर] चन्द्र, चाँद (हे १, ८, पड) । °अर पु [°चर] राक्षस (कप्पु: से १२, ६६) । °अरेद पुं [°चरेन्द्र] राक्षसों का नायक, राक्षस-पति (से ७, ५६) । °नाह पु [°नाथ] चन्द्रमा (सुपा ४१६) । °लोड न [°लोष्ट] शिला-पुत्रक, पीसने का पत्थर, लोडा (उवा) । °वइ पुं [°पति] चन्द्र, चाँद, चन्द्रमा (गउड) । देखो गिसिं ।
 गिसाण सक [नि + शाणय्] शान पर चढाना, पैनाला, तीक्ष्ण करना । सहु निसा-णिऊण (स १४३) ।
 गिसाण न [निशाण] शान, एक प्रकार का पत्थर, जिस पर हथियार तेज किया जाता है (गउड, सुपा २८) ।
 गिसाणिय वि [निशाणित] शान दिया हुआ, पैनाया हुआ, तीक्ष्ण किया हुआ, पैना, धारदार, नुकीला (सुपा ५६) ।
 गिसाम देखो गिसाम । गिसामेइ (महा) । वहु गिसामेत्त (सुर ३, ७८) । सहु. गिसामिऊण, गिसामित्ता (महा: उत्त २) ।

तन्भव पु [तद्भव] वही जन्म, इय जन्म के समान पर-जन्म । 'मरण न [मरण] वह मरण, जिनमे इस जन्म के समान ही परलोक में भी जन्म हो, यहाँ मनुष्य होने से आगामी जन्म में भी जिससे मनुष्य हो ऐसा मरण (भग २१, १) ।

तन्भारिय पु [तद्भार्य] दाम, नौकर, कर्मचारी, कर्मकर (भग ३, ७) ।

तन्भारिय पुं [तद्भारिक] ऊपर देखो (भग ३, ७) ।

तन्भूमि वि [तद्भूमि] उसी भूमि में उत्पन्न (बृह १) ।

तन्भक्ति प्र [दे] शीघ्र, जल्दी (प्राक् ८१) ।

तन्म श्रक [तम्] १ खेद करना । २ सक इच्छा करना । तन्मइ (प्राक्, ६६) ।

तन्म पुं [दे] शोक, अफसोस (दे ५, १) ।

तन्म पुन [तमस्] १ अन्वकार । २ अज्ञान (हे १, ३२, पि ४०६, श्रौप, धर्म २) ।

तन्म पु [तम] सातवी नरक-पृथिवी का जीव (कम्म ५, पंच ५) । 'तमप्पभा ली [तमप्रभा] सातवी नरक-पृथिवी (अणु) । 'तमा ली [तमा] सातवी नरक-पृथिवी (सम ६६, ठा ७) । 'तिमिर न [तिमिर] १ अन्वकार (बृह ४) । २ अज्ञान (पडि) । ३ अन्वकार-समूह (बृह ४) । 'प्यसा ली [प्रभा] छठवी नरक-पृथिवी (परण १) ।

तन्मण पुं [तमङ्ग] मतवारण, घर का वरणडा, छजा (सुर १३, १५६) ।

तन्मधयार पु [तमोन्धकार] प्रवल अन्वकार (पठम १७, १०) ।

तन्मण न [दे] बृहदा, जिसमें आग रखकर रनोई की जाती है वह (दे ५, २) ।

तन्मणि पुत्री [दे] १ भुज, हाथ । २ भुज, वृक्ष-विशेष की छाल, भोजपत्र (दे २, २०) ।

तन्मय पु [तमक] १ चौथा नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र १०) । २ पाँचवी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११) ।

तन्मय न [तमस्] अन्वकार, 'तमसाउ मे दिमा य' (पठम ३६, ८) ।

तन्मस वि [तामस] अन्वकारवाला (दस ५, १, २०) ।

तमस देखो तम = तमस्, 'अतरिओ वा तमसे वा न वदई, वदई उ दीसतो' (पव २) ।

तमस्सई ली [तमस्वती] घोर अन्वकारवाली रात (बृह १) ।

तमा ली [तमा] १ छठवी नरक-पृथिवी (सम ६६, ठा ७) । २ अशोदिसा (ठा १०) ।

तमाड सक [भ्रमय्] ध्रुमाना, फिराना । तमाडइ (हे ४, ३०) । वृह तमाडत (कुमा) ।

तमाल पु [तमाल] १ वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी, भत्त ४२) । २ न तमाल वृक्ष का फूल (से १, ६३) ।

तमिस पु [तमिस्र] पाँचवाँ नरक का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ११) ।

तमिस न [तमिस्र] १ अन्वकार (सूअ १, ५, १) । 'गुहा ली [गुहा] गुफा-विशेष (इक) ।

तमिसघयार पुं [तमिस्रान्धकार] प्रवल अन्वकार, घोर अंधेरा (सूअ १, ५, १) ।

तमिस्स देखो तमिस (दे २, २६) ।

तमी ली [तमी] रात्रि, रात (गउड) ।

तमुकाय देखो तमुकाय (भग ६, ५—पत्र २, ६८) ।

तमुकाय पु [तमस्काय] अन्वकार-प्रचय (ठा ४, २) ।

तमुय वि [तमस्] १ जन्मान्व, जात्यन्व । २ अत्यन्त अज्ञानी (सूअ २, २) ।

तमोकसिय वि [तम कापिक] प्रच्छन्न क्रिया करनेवाला (सूअ २, २) ।

तम्म श्रक [तम्] खेद करना । (गा ४८३) ।

तम्म देखो तम = तम । तम्मइ (प्राक्, ६६) ।

तम्मण वि [तम्मस्] तल्लीन, तथित (विपा १, २) ।

तम्मय वि [तम्मय] १ तल्लीन, तद्वर । २ उसका विकार (परह १, १) ।

तम्मि न [ते] वज्र, नपडा (गउड) ।

तम्मिर वि [तम्मिन्] वेद करनेवाला (गा ५८६) ।

तय वि [तत्त] वित्सार-युक्त (दे १, ४६, से २, ३१, महा) । २ न वाय-विशेष (ठा २, २) ।

तय न [त्रय] तीन का समूह, त्रिक, 'काल-त्तए वि न मय' (चउ ४५, धा २८) ।

तयं देखो तया = तदा । 'प्यभिइ थ [प्रभृति] तव से (स ३१६) ।

तयं देखो तया = त्वच् । 'कस्त्राय वि [खाव] त्वचा को खानेवाला (ठा ४, १) ।

तया अ [तदा] उस समय (कुमा) ।

तया ली [त्यच्] १ त्वचा, छाल, चमड़ी (सम ३६) । २ दालचीनी (भत्त ४१) । 'मत वि [मत्] त्वचा वाला (णया १, १) । 'विस पु [विप] सर्प की एक जाति (जीव १) ।

तयाणतर न [तदनन्तर] उसके बाद (श्रीप) ।

तयाणि } अ [तदानीम्] उस समय (पि
तयाणि } ३५८, हे १, १०१) ।

तयाणुग वि [तदनुग] उसका अनुसरण करनेवाला (सूअ १, १, ४) ।

तर श्रक [त्] कुशल रहना, नीरोग रहना । तरई (पिड ४१७) ।

तर श्रक [त्वर] त्वरा होना, जल्दी होना, तेज होना । तर (विसे २६०१) ।

तर श्रक [शक्] समर्थ होना, सकना । तरइ (हे ४, ८६) । वृह. तरत (शोष ३२४) ।

तर सक [त्] तैरना, तरइ (हे ४, ८६) । कर्म तरिज्जइ, तीरइ (हे ४, २५०, गा ७१) । वृह तरत, तरमाण (पाप्र, गुपा १८२) । हेह तरिउ तरीउ (णया १, १४, हे २, १६८) । क तरिअन्न (था १२; गुपा २७६) ।

तर न [तरस्] १ वेग । २ बल, पराक्रम । 'मट्टि वि [मट्टि] १ बेगवाला । २ बन्वाला । 'मट्टिहायण वि [मट्टिहायण] तस्स, युवा (श्रीप) ।

तरग पु [तरङ्ग] १ मल्लोत्त, घोषि, तण (परह १, ३, श्रीप) । 'णट्टण न [नन्दन] गुप-विशेष (ईस ३) । 'मान्ति पु [मान्तिम] ममुद्र, नागर (पाप्र) । 'यई ली [यती] १ एक नायिका । २ कया-अय-विशेष (ईस ३) ।

तरगल्लोला ली [नरदल्लोला] कम्ममट्टिपुट्टि-कृत एव अद्भुत प्राकृत जैन कथा-अय (अन्मण १३८) ।

गिसुद्धि वि [नम्र] भार से नमा हुआ (कुमा)।

गिसुण सक [नि + श्रु] सुनना, श्रवण करना। निसुणइ, गिसुणेइ, गिसुणेमि (सण, महा, सट्टि १२८)। वक्क, निसुणत, निसुणमाण सुपा १०६, सुर १२, १७४। कवक्क, निसुणिज्जत (सुपा ४५, रयण ६४)। सक निसुणित्त, निसुणिऊण, गिसुणिऊण (सुपा १४, महा, पि ५८५)।

गिसुद्ध वि [दे] ? पातित, गिराया हुआ (दे ४, ३६, पाअ, से ५, ६८)।

गिसुम्भत देखो गिसुम्भ = नि + शुम्भ्।

गिसुग देखो गिस्सुग (सुपा ३७०)।

गिसुद्ध देखो गिसुद्ध = नि + शुम्भ्। हेक्क निसुद्धिउ (सुपा ३६६)।

गिसुद्ध देखो गिस्सह = नि + सह्। निसुद्ध (प्राक्क ७२)।

गिसेग देखो गिसेय (पच ५, ४६)।

गिसेज्जा बी [निषद्या] वक्क, कपडा (पच १२७ टी)।

गिसेज्जा देखो गिसज्जा (उव, पच ६७)।

गिसेज्ज वि [निषेध्य] निषेध-योग्य (धर्म-स ६६३)।

गिसेणि देखो गिस्सेणि (सुर १३, १६०)।

गिसेय पु [निपेक] ? कर्म पुद्गलो की रचना-विशेष (ठा ६)। २ सेचन, सीचना, 'ता सपइ जिणवरविबदसणामयनिणए पीणि-उज्जल नियदिट्ठु' (सुपा २६६), 'काम्मावि कुण्ठि सिखिडरसनिसेय' (सुपा २०)।

गिसेव सक [नि + सेव्] ? सेवा करना, आदर करना। २ आश्रय करना। निसेवइ, निसेवए (महा, उव)। वक्क गिसेवमाण (महा)। कवक्क गिसेविज्जत (श्लोच ५६)। क्क निसेवणिज्ज (सुपा ३७)।

गिसेव सक [नि + सेव्] आचरना। गिसेवए (अज्ज १७६)।

गिसेवग देखो गिसेवय (सुत्र २, ६, ५)।

गिसेवणा बी [निपेवणा] सेवा, भजना (उत्त ३२, ३)।

गिसेवय वि [निपेवक] ? सेवा करनेवाला, सेवक। २ आश्रय करनेवाला (पुष्क २५१)।

गिसेवा बी [निपेवा] ऊपर देखो (सम्मत्त १५५, सवोध ३४)।

गिसेवि वि [निपेविन्] ऊपर देखो (स १०)।

गिसेविय वि [निपेवित] ? सेवित, आहत (आवम)। २ आश्रित (उत्त २०)।

गिसेह सक [नि + विध्] निषेध करना, निवारण करना। निसेहइ (हे ४, १३४)। कवक्क निसिज्जमाण (सुपा ५७२)। हेक्क निसेहिउ (स १६८)। क्क निसेहि-यउवा सययपि माया' (सत्त ३५)।

गिसेह पु [निपेध] ? प्रतिषेध, निवारण (उव, प्रासू १८१)। २ अपवाद (श्लोच ५५)।

गिसेहण न [निपेधन] निवारण (आवम)।

गिसेहणा बी [निपेधना] निवारण (आव १)।

गिसेहिया देखो गिसीहिआ = नैवेविकी। १ मुक्ति, मोक्ष। २ श्मशान-भूमि। ३ बैठने का स्थान। ४ नितम्ब, द्वार के समीप का भाग (राज)।

गिस्स वि [नि स्व] निर्धन, धन-रहित (पाअ)। °यर वि [°कर] ? निर्धन-कारक। २ कर्म को दूर करनेवाला (आचा २, १६, ६)।

गिस्सक पु [दे] निर्भर (दे ४, ३२)।

गिस्सक वि [नि शङ्क] ? शङ्का-रहित (सुत्र २, ७, महा)। २ न शङ्का का अभाव (पचा ६)।

गिस्सकिअ वि [नि शङ्कित] ? शङ्का-रहित (श्लोच ५६ भा, गाय्या १, ३)। २ न शङ्का का अभाव (उत्त २८)।

गिस्सग वि [नि सङ्ग] सङ्ग-रहित (सुपा १४०)।

गिस्सचार वि [नि सचार] सचार-रहित, गमनागमन-वर्जित (गाय्या १, ८)।

गिस्सज्जम वि [निस्सयम] समय-रहित (पउम २७, ५)।

गिस्सत वि [नि शान्त] प्रशान्त, अतिशय शान्त (राय)।

गिस्सद देखो गीसद (पएह १, १, नाट—मालती ५१)।

गिस्सदेह वि [निस्सदेह] सदेह-रहित, निश्चय, नि सशय (काल)।

गिस्सधि वि [निस्सन्धि] सन्धि-रहित, साँचा से रहित (पएह १, १)।

गिरसस वि [नृसस] क्रूर, निर्दय (महा)।

गिस्सस वि [नि अस] श्लाघा-रहित (पएह १, १)।

गिस्ससय वि [नि सशय] ? सशय-रहित। २ क्रि. नि सदेह, निश्चय (अभि १८४, आवम)।

गिस्सक सक [नि + ष्वक्] कम करना, घटाना। सक निस्सकिय (आचा २, १, ७, २)।

गिस्सण पु [नि स्वन्] शब्द, आवाज (कुप्र २७)।

गिस्सण वि [नि सज्ज] संज्ञा-रहित (सुत्र १, ५, १)।

गिस्सत्त वि [नि सत्त्व] धैर्य-रहित, सत्त्व-हीन (सुपा ३५६)।

गिस्सन्न देखो गिसण्ण (रयण ५)।

गिस्सम्म अक [निर + श्रम्] बैठना। वक्क गिस्सम्मत्त (सि ६, ३८)।

गिस्सय पु [निश्रय] देखो गिस्सा (सवोध १६)।

गिस्सर अक [निर + स्] बाहर निकलना। गिस्सरइ (कप्प)। वक्क गिस्सरंत (नाट—चैत ३८)।

गिस्सरण वि [नि सरण] निर्गमन, बाहर निकलना (ठा ४, २)।

गिस्सरण वि [नि शरण] शरण-रहित, त्राण-वर्जित (पउम ७३, ३२)।

गिस्सरिअ वि [दे] वस्त, खिसका हुआ (दे ४, ४०)।

गिस्सल्ल वि [नि शल्य] शल्य-रहित (उप ३२० टी, द्र ५७)।

गिस्सस अक [निर + श्वस्] नि श्वास लेना। निस्ससइ, गिस्ससति (भा)। वक्क गिस्ससिज्जमाण (ठा १०)।

गिस्सह वि [नि सह] मन्द, अशक्त (हे १, १३, ६३, कुमा)।

गिस्सा बी [निश्रा] ? आलम्बन, आश्रय, सहारा (ठा ५, ३)। २ अवीनता (उप १३० टी)। ३ पक्षपात (वव ३)।

गिस्साण न [निश्राण] निश्रा, अवलम्बन (पएह १, ३)। °पय न [°पद्] अपवाद (बृह १)।

गिस्साण पुन [दे] वाद्य-विशेष, निशान, 'वज्जिरनिस्साणएतूररवगज्जो' (धर्मवि ५६)।

तलहट्ट सक [सिच] सीचना । तलहट्टइ, तलहट्टप (सुपा ३६३) । वळ तलहट्टत (सुपा ३६३) ।

तलहट्टिया झी [दे] पर्वत का मूल, पहाड के नीचे की भूमि, तलहटी, तराई, पुनराती मे—'तलहटी' (सम्पत्त १३७) ।

तलाई झी [तड़ागिका] छोटा तालाव (कुमा) ।

तलाग } न [तड़ाग] तालाव, सरोवर (औप, तलाय } हे १, २०३, प्राप्, एया १, ८, उप) ।

तलार पुं [दे] नगर-रक्षक, कोतवाल (दे ५, ३, सुपा २३३, ३६१; षड्, कुप्र १५५) ।

तलारक्ख पु [दे तलारक्ष] ऊपर देखो (श्रा १२) ।

तलाव देखो तलाग (उवा, पि २३१) । तलिय वि [तलित्त] भूना हुआ, तला हुआ (विपा १, २) ।

तलिआ } न [दे] उपानह, जूता, (श्रोध तलिगा } ३६, ६८, बृह १) ।

तलिण वि [तलिन] १ प्रतल, सूक्ष्म, बारीक (परह १, ४, औप, दे ५, ६) । २ तुच्छ, छुट (से १०, ७) । ३ दुर्बल (पात्र) ।

तलिम पुन [दे] १ शय्या, बिछौना (दे ५, २०, पात्र, एया १, १६—पत्र २०१, २०२, गउड) । २ कुट्टिम, फरस-बन्द जमीन (दे ५, २०, पात्र) । ३ घर के ऊपर की भूमि । ४ वास-भवन, शय्या-गृह । ५ आष्ट, भूतने का भाजन—बरतन (दे ५, २०) ।

तलिमा झी [तलिमा] वाद्य-विशेष (विसे ७८ टी, एदि टी) ।

तलुण देखो तरुण (एया १, १६, राम, वा १५) ।

तलेर [दे] देखो तलार (भवि) ।

तल्ल न [दे] १ पल्ल, छोटा तालाव (दे ५, १६) । २ तुण विशेष, बरु (दे ५, १६, परह २, ३) । ३ शय्या, बिछौना (दे ५, १६, षड्) ।

तल्लक पुं [तल्लक] सुरा-विशेष (राज) ।

तल्लड न [दे] शय्या, बिछौना (दे ५, २) ।

तल्लिच्छ वि [दे] तल्प, तल्लीन, (दे ५, ३, सुर १, १३, पात्र) ।

तल्लेस } वि [तल्लेश्य] उसी मे जिसका तल्लेरस } अध्यवसाय हो, तल्लीन, तदासक विपा १, २, राज) ।

तल्लोचिल्लि झी [दे] तडफडना तडफना, व्याकुल होना, 'योडइ जलि जिम मच्छलिया तल्लोचिल्लि करत' (कुप्र ८६) ।

तच अक [तप्] १ तपना, गरम होना । २ सक तपश्चर्या करना । तचइ (हे १, १३१, गा २२४) । भूका तचिसु (भग) । वळ तचमाण (श्रा २७) ।

तप सक [तापय] गरम करना । तवेइ (भग) ।

तच पुंन [तपस्] तपस्या; तपश्चर्या (सम ११, नव २६, प्राप् २८) । °गच्छ पु [गच्छ] जैन मुनियो की एक शाखा, गण-विशेष (सति १४) । °गग पु [°गण] पूर्वोक्त ही अर्थ (इ ७०) । °चरण, °चरण न [°चरण] १ तपश्चर्या, तप-करण (सुभ १, ५, १, उप पु ३६०, अभि १४७) । २ तप का फल, स्वर्ग का भोग (एया १, ६) ।

°चरणि वि [°चरणिन्] तपस्या करनेवाला (ठा ५, ३) । देखो तचो ।

तच देखो थव (हे २, ४६, षड्) ।

तच देखो थुण । तचइ (प्राक् ६७) ।

तचगग पु [तचर्ग] 'त' से लेकर 'न' तक पाँच अक्षर । °पविभक्ति न [°प्रविभक्ति] नाट्य-विशेष (राम) ।

तचण पु [तचण] १ सूर्य सूरज (उप १०३१ टी, कुप्र २१५) । २ रावण का एक प्रधान सुमट (से १३, ८५) । ३ न शिखर-विशेष (दीव) ।

तचण पु [तचण] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (द्वेन्द्र ८) । °तणया झी [तनया] सापी नदी (हम्मिर १५) ।

तचणा झी [तचना] आवापना (सुपा ४१३) । तचणिञ्ज न [तचणीञ्ज] सुवर्ण, सोना (परह १, ४, सुपा ३६) ।

तचणिञ्ज पुन [तचणीञ्ज] एक देव-विमान (द्वेन्द्र १३२) ।

तचणी झी [दे] १ भक्ष्य, भक्षण-योग्य करण आदि (दे ५, १, सुपा ५४८, वज्जा ६२) ।

२ धान्य को खेत से काटकर भक्षण योग्य बनाने की क्रिया (सुपा ५४६) । ३ तवा, पुआ आदि पकाने का पात्र (दे २, ५६) ।

तचणीय देखो तचणिञ्ज (सुपा ४८) ।

तचभाण देखो तच = तप ।

तचय वि [दे] व्यापृत, किसी कार्य में लगा हुआ (दे ५, २) ।

तचय पु [तचक] तवा; भूतने का भाजन (विपा १, ३, सुपा ११८, पात्र) ।

तचसि देखो तचसिस, 'पयचित्तपि न कयइ इत्तो तचसीण ज गनु' (धर्मवि ५३, १६) । तचसिस वि [तचसिन्] १ तपस्या करनेवाला (सम ५१, उप ८३३ टी) । २ पु साधु, मुनि, ऋषि (स्वप्न १८) ।

तचिअ वि [तच] तपा हुआ, गरम (हे २, १०५, पात्र) ।

तचिअ वि [तापित] १ गरम किया हुआ । २ सतापित, 'एयाए को न तचिअो, जयम्मि लच्छीए सच्छद' (सुपा २०४, महा, पिग) ।

तचिअ वि [तापित] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक स्थान (द्वेन्द्र ८) ।

तचिआ झी [तापिका] तवा का हाथा (दे १, १६३) ।

तचु देखो तड (पत्रम ११८, ८) ।

तचो देखो तओ (रभा) ।

तचो देखो तव = तपस् । °कम्म न [°कर्मन्] तप-करण (सम ११) । °धण पु [°धन] ऋषि, मुनि (प्राक्) । °धर पु [°धर] तपस्वी, मुनि (पत्रम २०, १६५, १०३, १०८) । °वण न [°वन] ऋषि का आश्रम (उप ७४५, स्वप्न १६) ।

तच्चणिय वि [दे] सौगत, बौद्ध, बुद्ध-दर्शन का अनुयायी, 'तच्चणियाण विअं विसयमुहं कुसल्यभावणाघणिय' (विसे १०४१) ।

तच्चणिय वि [दे] तृतीयवर्षिक; तृतीय आश्रम में स्थित (उप पु २६८) ।

तच्चिह वि [तच्चिह] उसी प्रकार का (भग) । तस अक [त्रस] डरना, आस पाना । तसइ (हे ४, १६८) । छ तसियञ्ज (उप ३३६ टी) ।

तस पु [त्रस] १ स्पर्श-इन्द्रिय से श्रविक इन्द्रियवाला जीव; इन्द्रिय आदि प्राणी (जीव

गिहाण न [निघान] वह स्थान जहाँ पर घन आदि गाढा गया हो, खजाना, भण्डार (उवा, गा ३१८, गडड)।

गिहाय पु [दे] १ स्वेद, पसीना (दे ४, ४६)। २ समूह, जत्था (दे ४, ४६, से ४, ३८, स ४४६, भवि, पात्र, गडड, सुर ३, २३१)।

गिहाय पु [निघात] आघात, आस्फालन (से १५, ७०, महा)।

गिहाय देखो गिहा = नि + घा, नि + हा।

गिहाय पु [निहाद] अव्यक्त शब्द (सुख ४, ६)।

गिहार पु [निहार] निगम (परह १, ५, डा ८)।

गिहारिम न [निहारिम] जिसके मृतक शरीर को बाहर निकालकर संस्कार किया जाय उसका मरण (भग)। २ वि दूर जाने वाला, दूर तक फैलनेवाला (परह २, ५)।

गिहाल देखो गिभाल। गिहालेहि (स १००)। वक्र गिहालत, गिहालयत (उप ६८८ टी, ६८६ टी)। सक्-निहालत (गच्छ १)। कृ गिहालेयञ्च (उप १००७)।

गिहालण न [निभालन] निरीक्षण, अवलोकन (उप प्र ७२, सुर ११, १२, सुपा २३)।

गिहालित्त वि [निभालित्त] निरीक्षित (पात्र, स १००)।

गिहि वि [निधि] १ खजाना, भंडार (स्याया १, १३)। २ घन आदि से भरा हुआ पात्र (हे १, ३५, ३, १६, डा ५, ३), 'अच्छेरेव गिहि विग्र सग्गे रज्ज व अमअपाए व' (गा १२५)। ३ चक्रवर्ती राजा की संपत्ति-विशेष, नैसर्ग आदि नव निधि (डा ६)। 'नाह पु [नाथ] कुवेर, धनेश (पात्र)।

गिहि पुत्री [निधि] लगातार नव दिन का उपवास (सक्रोव ५८)।

गिहिअ वि [निहित] स्थापित (हे २, ६६, प्राप्र)।

गिहिण वि [निभिन्न] विदारित (अच्छु १६)।

गिहित्त देखो गिहिअ (गा ५६५, काप्र ६०६, प्राप्र)।

गिहिप्पत देखो गिहा = नि + घा।

गिहिल वि [निखिल] सब, सकल (अच्छु ६, आरा ५५)।

गिहिल्लय देखो गिहिअ (सुख २, ४३)।

गिही छी [दे] वनस्पति-विशेष (राज)।

गिहीण वि [निहीन] न्यून (कुप्र ४५४)।

गिहीण वि [निहीन] तुच्छ, खराब, हलका, क्षुद्र, 'अत्थि निहीणे देहे कि रागनिवघणं तुच्छं?' (उप ७२८ टी)।

गिहु छी [स्निहु] औषधि-विशेष (जीव १)।

गिहुअ वि [निभृत] १ गुप्त, प्रच्छन्न, छिपा हुआ (से १३, १५, महा)। २ विनीत, अनुद्धत (से ४, ५६)। ३ मन्द, धीमा (पात्र, महा)। ४ निश्चल, स्थिर (उत्त १६)। ५ असम्प्रान्त, सम्भ्रमरहित (वस ६)। ६ घृत, धारण किया हुआ। ७ निर्जन, एकान्त। ८ प्रस्त होने के लिए उपस्थित (हे १, १३१)। ९ उपशान्त (परह २, ५)।

गिहुअ वि [दे] १ व्यापार रहित, अनुद्युक्त, निश्चेष्ट (दे ४, ५०, से ४, १, सूत्र २, ८, बह ३)। २ कृष्णीक, मोन (दे ४, ५०, सुर ११, ८४)। ३ न सुरत, मैथुन (दे ४, ५०, पड)।

गिहुअण देखो गिहुवण (गा ४८३)।

गिहुआ छी [दे] कामिता, सभोग के लिए प्राथित् छी (दे ४, २६)।

गिहुण न [दे] व्यापार, वत्था (दे ४ २६)।

गिहुत्त वि [दे] निमग्न, हुवा हुआ (पउम १०२, १६७)।

गिहुत्थिभगा छी [दे] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)।

गिहुव सक [कामय] सभोग का अभिलाष करना। गिहुवइ (हे ४, ४४)।

गिहुवण न [निधुवन] सुरत, संभोग (कपू, काप्र १६४), 'गिहुवणञ्चुविअणाहिकुविआ' (मै ४२)।

गिहुअ न [दे] १ सुरत, मैथुन (दे ४, २६)। २ वि अकिञ्चित्कर (विसे २६१७)। देखो गीहूय।

गिहेलण न [दे] १ गृह, घर, मकान (दे ४, ५१, हे २, १७४, कुमा, उप ७२८ टी, स १८०, पात्र, भवि)। २ जघन, छी के कमर के नीचे का भाग (दे ४, ५१)।

गिहो अ [न्यग्र] नीचे (सूत्र १, ५ १, ५)। गिहोड सक [नि + वारय] निवारण करना, निषेध करना।

गिहोडइ (हे ४, २२)। वक्र गिहोडंत (कुमा)।

गिहोड सक [पातय] १ गिराना। २ नाश करना। गिहोडइ (हे ४, २२)।

गिहोडिय वि [पातित] १ गिराया हुआ (वस ३)। २ विनाशित (उव ५६७ टी)।

गी सक [गम्] जाना, गमन करना। गीइ (हे ४, १६२, गा ४६ अ) भवि गीहसि (गा ७४६)। वक्र गित, गेंत (से ३, २, गडड, गा ३३४, उप २६४ टी, गा ४२०)। सक. गित्तण, नीड (गडड, विसे २२२)।

गी सक [नी] १ ले जाना। २ जानना। ३ ज्ञान कराना, बतलाना। गीइ, गीइइ (हे ४, ३३७, विसे ६१४)। वक्र, गेंत (गा ५०, कुमा)। कवक-गिज्जंत, गीअमाण (गा ६८२ प्र, से ६, ८१, सुपा ४७६)। सक. गइअ, गेउ, गेउआण, गेऊण (नाट—मृच्छ २६४, कुमा, पड, गा १७२)। हेक-गेउ (गा ४६७, कुमा)। क. गेअ, गेअञ्च (पउम ११६, १७, गा ३३६)। प्रयो. गेयावइ (सण)।

गीअअ वि [दे] समीचीन, सुन्दर (पिंग)।

गीआरण न [दे] बलि-घटी, बली रखने का छोटा कलश (दे ४, ४३)।

गीइ छी [नीति] १ न्याय, उचित व्यवहार, न्याय्य व्यवहार (उप १८६, महा)। २ नय, वस्तु के एक घर्म को मुख्यतया माननेवाला मत (डा ७)। 'सत्थ न [शास्त्र] नीति-प्रतिपादक शास्त्र (सुर ६, ६५, सुपा ३४०, महा)।

गीका छी [नीका] कुल्या, नहर, सारणि (कुमा)।

गीखय वि [निक्षत] निखिल, सपूर्णा, 'नय नीखयक्खाए तीरइ काऊण सुत्तस्स' (विचार ८)।

गीअअ न [नीचैस्] १ नीचे, अध (हे १, १५४)। २ वि. नीचा, अध-स्थित (कुमा)।

गीच्छू देखो गिच्छू (एदि)।

ति देखो तइअ = तृतीय (कम्म २, १६) ।
 भाग, भाय, हाअ पु [भाग] तृतीय
 भाग, तीसरा हिस्सा (कम्म २, णाया १,
 १६—पत्र २१८, कप्प) ।

ति देखो थी, उल्लु गायति भूर्ण सभत्तिपुत्ता
 तिभो चच्चरियार्जविति (रभा) ।

ति त्रि व [त्रि] तीन, दो और एक (नव ४,
 महा) । अणुअ न [अणुक] तीन पर-
 माणुओ से बना हुआ द्रव्य, अणुअतएहि
 आरद्धव्वे तिम्राणुअ ति निहैसा (सम्म
 १३६) । उण वि [गुण] १ तीनगुना ।
 २ सत्व, रजस् और तमस् गुणवाला (अच्छु
 ३०) । उणिय वि [गुणित] तीनगुना
 (भवि) । उत्तरसय वि [उत्तरशततम]
 एक सौ तीसरा, १०३ वां (पउम १०३,
 १७६) । उल वि [तुल] १ तीन को
 जीतनेवाला । २ तीन को तौलनेवाला (णाया
 ३, १—पत्र ६४) । ओय न [ओजस्]
 विषम राशि-विशेष (ठा ४, ३) । कड,
 कडग वि [काण्ड, क] तीन काण्डवाला,
 तीन भागवाला (कप्प, सूअ १, ६) । कडुअ
 न [कटुक] सोठ, मरीच और पीपल
 (अणु) । करण देखो गरण (राज) ।
 काल न [काल] भूत, भविष्य और वर्त्त-
 मान काल (भग, सुपा ८८) । काल देखो
 काल (सुपा १६६) । खड वि [खण्ड]
 तीन खण्डवाला (उप ६८६ टी) । खडा-
 हिवइ पु [खण्डाधिपति] अर्धं चक्रवर्ती
 राजा, वासुदेव (पउम ६१, २६) । गडु,
 गडुअ देखो कडुअ (स २५८, २६३) ।
 गरण न [करण] मन, वचन और काया
 (इ २०) । गुण देखो उण (अणु) ।
 गुत्त वि [गुप्त] मनोगुप्ति आदि तीन
 गुप्तिवाला, सयमी (स ८) । गोण वि
 [कोण] तीन कोनेवाला (राज) । चत्ता
 ली [चत्वारिंशत्] तैतालीस (कम्म ४,
 ५५) । जय न [जगत्] स्वर्ग, मर्त्य
 और पाताल लोक (ति १) । णयण पु
 [नयन] महादेव, शिव (स १५, ५८, सुपा
 १३८, ५६६, गलड) । तुल देखो उल
 (णाया १, १ टी—पत्र ६७) । त्तिस
 (अप) देखो तीस । तीस लीन [त्रय-

खिंशत्] १ सख्या-विशेष, ३३ । २ तैतीस
 सख्यावाला, तैतीस (कप्प, जी ३६, सुर १२,
 १३६, द २७) । दड न [दण्ड] १ हथि-
 यार रखने का एक उपकरण (महा) । २ तीन
 दण्ड (श्रीप) । दडि पु [दण्डिन] संन्यासी,
 साख्य मत का अनुयायी साधु (उप १३६ टी,
 सुपा ४३६ महा) । नवइ ली [नवति] १
 सख्या विशेष, तिरानवे । २ तिरानवे सख्या-
 वाला (कम्म १, ३१) । पच त्रि व
 [पञ्चन] पद्रह (श्रीप १४) । पचासइम
 वि [पञ्चाश] त्रिपनवां (पउम ५३, १५०) ।
 पह न [पथ] जहा तीन रास्ते एकत्रित
 होते हो वह स्थान (राज) । पायण न
 [पातन] १ शरीर, इन्द्रिय और प्राण इन
 तीनों का नाश । २ मन, वचन और काया
 का विनाश (पिंड) । पुड न [पुण्ड]
 तिलक-विशेष (स ६) । पुर पु [पुर] १
 दानव-विशेष । २ न तीन नगर (राज) ।
 पुरा ली [पुरा] विद्या-विशेष (सुपा
 ३६७) । भगी ली [भङ्गी] छन्द-विशेष
 (पिण) । मडुर न [मधुर] धी, शकर और
 मधु (अणु) । मासिआ ली [त्रैमासिकी]
 जिसकी अवधि तीन मास की है ऐसी एक
 प्रतिमा, व्रत-विशेष (सम २१) । मुह वि
 [मुख] १ तीन मुखवाला (राज) । २ पु
 भगवान् सभन्नाथजी का शासन-देव (सति
 ७) । रत्त न [रात्र] तीन रात (स
 ३४२), 'धम्मपरसस मुहुतोवि दुल्लहो किणुण
 तिरत्त' (कुप्र ११८) । रासि न [राशि]
 जीव, अजीव और नोजीव रूप तीन राशियाँ
 (राज) । लोअ न [लोकी] स्वर्ग, मर्त्य
 और पाताल लोक (कुमा, प्रासु ८६, स १) ।
 लोअण पु [लोचन] महादेव, शिव
 (श्रा २८, पउम ५, १२२, पिण) । लोअ-
 पुज्ज पु [लोकपूज्य] घातकीपण्ड के विदेह
 में उत्पन्न एक जिनदेव (पउम ७५, ३१) ।
 लोई ली [लोकी] देखो लोअ (गलड,
 भत्त १५२) । लोग देखो लोअ (उप पृ
 ३) वई ली [पदी] १ तीन पदों का समूह ।
 २ भूमि में तीन बार पाँव का न्यास (श्रीप) ।
 ३ गति-विशेष (अंत १६) । वगग पु
 [वर्ग] १ धर्म, अर्थ और काम ये तीन

पुरुषार्थ (ठा ४, ४—पत्र २८३, स ७०३,
 उप पृ २०७) । २ लोक, वेद और समय
 इन तीन का वर्ग । ३ सूय, अर्थ और उन
 दोनों का समूह (आहू १, आवम) । वण्ण
 पुं [वर्ण] पलाश वृक्ष (कुमा) । वरिस वि
 [वर्ष] तीन वर्षों की अवस्थावाला (वद
 ३) । वलि ली [वलि] चमडी की तीन
 रेखाएँ (कप्प) । वलिय वि [वलिक]
 तीन रेखावाला (राय) । वली देखो वलि
 (गा २७८, श्रीप) । वट्ट पु [वृष्ट] भरत-
 क्षेत्र के भावी नवम वासुदेव (सम १५४) ।
 वय न [वद्] तीन पाँववाला (दे ८, १) ।
 वहआ ली [पथगा] गंगा नदी (से ६,
 ८, अच्छु ३) । वायणा ली [पातना]
 देखो पायण (परह १, १) । विट्ट,
 विट्टु पु [वृष्ट, विट्ट] भारतक्षेत्र में
 उत्पन्न प्रथम अर्ध-चक्रवर्ती राजा का नाम
 (सम ८८, पउम ५, १५५) । विह वि
 [विध] तीन प्रकार का (उवा, जी २०,
 नव ३) । विहार पु [विहार] राजा
 कुमारपाल का वनवाया हुआ पाटण का
 एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४) । सङ्कु पु
 [शङ्कु] सूर्यवंशीय एक राजा (अभि ८२) ।
 सभ न [सन्ध] प्रभात, मध्याह्न और
 सायंकाल का समय (सुर ११, १०६) ।
 सट्ट वि [पष्ट] तिरसठवाँ, ६३ वाँ (पउम
 ६३, ७३) । सट्टि ली [पष्टि] तिरसठ,
 ६३ (अभि) । सत्त त्रि व [सप्तन]
 एकीस (श्रा ६) । सत्तलुत्तो अ [सप्त-
 कृत्वस्] एकीस बार (णाया १, ६, सुपा
 ४४६) । समइय वि [सामयिक] तीन
 समय में उत्पन्न होनेवाला, तीन समय की
 अवधिवाला (ठा ३, ४) । सरय न [सरक]
 तीन सरा या लडीवाला हार (णाया १,
 १, श्रीप, महा) । २ वाद्य-विशेष (पउम ६६,
 ४४) । सरा ली [सरा] मन्थली पकड़ने
 का जाल-विशेष (विपा १, ८) । सरिय न
 [सरिक] १ तीन सरा या लडी वाला हार
 (कप्प) । २ वाद्य-विशेष (पउम ११३, ११) ।
 ३ वि वाद्य-विशेष-सवन्धी (पउम १०२,
 १२३) । सीस पु [शीर्ष] देव-विशेष
 (दीव) । सुल न [शूल] शस्त्र-विशेष (पउम

गोलुक् सक [गम्] जाना, गमन करना ।
 गोलुक्कइ (हे ४, १६२) ।
 गोलुप्पल न [नीलोत्पल] नील रग का
 कमल (हे १, ८४, कुमा) ।
 गोलुय पु [दे] अश्व की एक उत्तम जाति
 (सम्मन २१६) ।
 गोलोभास पु [नीलावभास] १ ग्रहाधि-
 धायक देव-विशेष (ठा २, ३) । २ वि नील-
 च्छाय, जो नीला मान्नुम देता हो (गाया
 १, १) ।
 गोव पु [नीप] वृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड
 (हे १, २३४, कम्प खाया १, ६) ।
 गोवार पु [नीवार] वृक्ष-विशेष, तिल्ली का
 पेड (गडड) ।
 गोवार पु [नीवार] ग्रीहि-विशेष (सूत्र १,
 ३, २, १६) ।
 गोवी स्त्री [नीवी] मूल घन, पूँजी । २ नारा,
 इजारवन्द (षड्, कुमा) ।
 गोसक देखो गिस्सक = नि शक (गा ३४५,
 कुमा) ।
 गोसक पु [दे] वृषभ, बैल (षड्) ।
 गोसकिअ देखो गिस्सकिअ (विसे ५६२,
 सुर ७, १५५) ।
 गोसख वि [नि सख्य] सख्या-रहित, असख्य
 (सुपा ३५५) ।
 गोसचार देखो गिस्सचार (पउम ३२, १) ।
 गोसद पु [नि प्यन्द] रस-स्तुति, रस का
 करन (गडड) ।
 गोसदिअ वि [नि प्यन्दिअ] करा हुआ,
 टपका हुआ (पात्र) ।
 गोसदिअ वि [नि प्यन्दिअ] करनेवाला, टप-
 कनेवाला (सुपा ५६) ।
 गोसपाय वि [दे] जहाँ जनपद परिश्रान्त
 हुआ हो वह (दे ४, ४२) ।
 गोसट्ट वि [नि सट्ट] १ विमुक्त (परह १,
 १-पत्र १८) । २ प्रवत्त (बृह २) । ३ क्रिवि
 आतिशय, अत्यन्त, 'गोसट्टमचेयणो ए वा
 भरई' (उव) ।
 गोसण पु [नि स्वन] आवाज, शब्द, ध्वनि
 (सुर १३, १८२, कुप्र ५६) ।
 गोसणिआ स्त्री [दे] नि श्रेणि, सीढी (दे
 गोसणी ४, ४३) ।

गोसत्त वि [नि सत्त्व] सत्त्व-हीन, बल रहित
 (पउम २१, ७५, कुमा) ।
 गोसइ वि [नि शब्द] शब्द-रहित (दे ७,
 २८, भवि) ।
 गोसर अक [रम्] क्रीडा करना, रमण करना ।
 गोसरइ (हे ४, १६८) कृ गोसरणिज्ज
 (कुमा) ।
 गोसर अक [निर + सु] बाहर निकलना ।
 गोसरइ (हे ४, ७६) । वक्क नीसरत
 (श्रोष ४५८ टी) ।
 गोसरण न [नि सरण] फिसलन, रपटन
 (वव ४) ।
 गोसरग न [नि सरण] निर्गमन (से ६,
 १८) ।
 गोसरिअ वि [नि स्रत] निर्गत, निर्यात
 (सुपा २४७) ।
 गोसल वि [नि शल] १ निश्चल, स्थिर ।
 २ वक्रता-रहित, उत्तान, सपाट, 'नीसलतड्डिय-
 च्चदायएहि मडियचचकियादेस' (सुर ३, ७२) ।
 गोसल वि [नि शल्य] शल्य-रहित (भवि) ।
 गोसव सक [नि + श्रावय] निर्जरा करना,
 क्षय करना । वक्क नीसवमाण (विसे
 २७४६) ।
 गोसवग देखो गोसवय (आवम) ।
 गोसवत्त वि [नि सपत्त] शत्रु-रहित, विपक्ष-
 रहित (मुच्छ ८, पि २७६) ।
 गोसवय वि [नि श्रावक] निर्जरा करनेवाला
 (विसे २७४६) ।
 गोसस अक [निर + श्वस्] नीसास लेना,
 श्वास को नीचा करना । गोससइ (षड्) ।
 वक्क गोससत्त, गोससमाण (गा ३३,
 कुप्र ४३, आचा २, २, ३) । सक्क गोस-
 सिअ, गोससिऊण (नाट, महा) ।
 गोससण न [नि श्वसन] नि श्वास (कुमा) ।
 गोससिअ न [नि श्वसित] नि श्वास (से
 १, ३८) ।
 गोसह वि [नि सह] मन्द, अशक्त (हे १,
 १३, कुमा) ।
 गोसह वि [नि शाख] शाखा-रहित (गा
 २३०) ।
 गोसा स्त्री [दे] पीसने का पत्थर (वस ५,
 १) ।

गोसा देखो गिस्सा (कम्प) ।
 गोसाइ वि [नि स्वादिन्] स्वाद-रहित (प्रवि
 १०) ।
 गोसाण देखो गिस्साण = (दे) घर्मवि ८०) ।
 गोसामण } वि [नि सामान्य] १ असा-
 गोसामन्न } धारण (गडड, सुपा ६१, हे २,
 २१२) । २ रुठ (पात्र) ।
 गोसार सक [निर + सारय] बाहर
 निकालना । गोसारइ (भवि) । कर्म नीसा-
 रिज्जइ (कुप्र १४०) ।
 गोसार पु [दे] मरडप (दे ४, ४१) ।
 गोसार वि [नि सार] सार-रहित, फल्यु (से
 ३, ४८) ।
 गोसारण न [नि सारण] निष्कासन, बाहर
 निकालना (सुर १५, २०३) ।
 गोसारय वि [नि सारक] बाहर निकाल ने
 वाला (से ३, ४८) ।
 गोसारिय वि [नि सारित] निष्कासित (सु-
 ५, १८८) ।
 गोसास देखो गिस्सास (हे १, ६३, कुमा,
 प्राप्र) ।
 गोसास } वि [नि श्वास, क] नि श्वास
 गोसासय } लेनेवाला (विसे २७१५, २७१४) ।
 गोसाहार देखो गिस्साहार, "नीसाहारा य
 पडइ भूमि" (सुर ७, २३) ।
 गोसित्त वि [नि षिक्त] अत्यन्त सिक्त
 (षड्) ।
 गोसीसिअ वि [दे] निर्वासित, देश-बाहर
 किया हुआ (दे ४, ४२) ।
 गोसेयस देखो गिस्सेयस (जीव ३) ।
 गोसेणि स्त्री [नि श्रेणि] सीढी (सूर १३,
 १५७) ।
 गोसेस देखो गिस्सेस (गडड, उव) ।
 गोहट्टु अ निकाल कर (आचा २, ६, २) ।
 गोहट्टु अ [नि + स्रत्य] बाहर निकल कर
 (आचा २, १, १०, ४) ।
 गोहड वि [निहृत्] १ निर्गत, निर्यात
 (आचा २, १, १) । २ बाहर निकाला हुआ
 (बृह १, कस) ।
 गोहडिया स्त्री [निहृत्तिका] अन्य स्थान भे
 ले जाया जाता द्रव्य (बृह २, सू० १८) ।
 गु० भाणु ।

तिदूस पुन [तिदूस, °क] १ वृक्ष विशेष
तिदूसग (परण १) । २ कन्दुक, गेंद
तिदूसय (राया १, १८, सुपा ५३) ।
३ क्रीडा-विशेष (प्रावम) ।

तिकल न [त्रैकाल्य] तीनो काल का विषय
(परह २, २) ।

तिकूड पु [त्रिकूट] १ लका के समीप का
एक पहाड, सुवेल पर्वत (पउम ५, १२७) ।
२ शीता महानदी के दक्षिण किनारे पर
स्थित पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।
°सामिय पु [°स्वामिन्] सुवेल पर्वत का
स्वामी, रावण (पउम ६५, २१) ।

तिकख वि [तीक्ष्ण] १ तेज, तीखा, पैना
(शहा ग १०४) । २ सूक्ष्म । ३ कोखा,
शुद्ध (कुमा) । ४ पक्ष, निष्ठुर (भग १६,
३) । ५ वेग युक्त, क्षिप्र-कारी (ज २) । ६
क्रोधी, गरम प्रकृतिवाला । ७ तीता, कडुवा
न जसाही । ८ आलस्य-रहित । १० चतुर,
दक्ष । ११ न विष, जहर । १२ लोहा ।
१३ युद्ध, सग्राम । १४ शत्रु, हथियार । १५
समुद्र का नोन । १६ यवक्षार । १७ श्वेत
कुष्ठ । १८ ज्योतिष-प्रसिद्ध तीक्ष्ण गण्य, यथा
शरत्वेया, आर्द्रा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र (हे
२, ७५, ८२) ।

तिकख सक [तीक्ष्णय्] तीक्ष्ण करना,
तेज करना । तिकखे (हे ४, ३४४) ।

तिकखण न [तीक्ष्णन] तेज-करण, उत्तेजन
(कुमा) ।

तिकखाल सक [तीक्ष्णय्] तीक्ष्ण करना ।
कर्म तिकखालिज्जति (सुर १२, १०६) ।

तिकखालिअ वि [दे] तीक्ष्ण किया हुआ
(दे ५, १३, पात्र) ।

तिम्बुनो अ [त्रिस] तीन बार (विपा
१, १, कम्प, औप, राय) ।

तिग देखो तिअ = त्रिक (जी ३२, सुपा ३१,
राया १, १) । °वस्सि वि [°वशिन] मन,
वचन और शरीर को काव्रु में रखनेवाला,
'नरस्स तिगवस्सिस्स विसं तालउड जहा'
(सुपा १६७) ।

तिगसपुण्ण न [त्रिकसपूर्ण] लगातार तीस
दिन का उपवास (सवीव ५८) ।

तिगिळ पुं [तिगिळ्] ब्रह्म-विशेष (इक) ।
तिगिळायण न [तिगिळायन] गोत्र-विशेष
(सुज्ज १०, १६ टी) ।

तिगिळि पु [तिगिळि] १ पर्वत-विशेष
(ठा २, ३—पत्र ७०, इक, सम, ३३) ।
२ ब्रह्म-विशेष, निषव पर्वत पर स्थित एक
हृद (ठा २, ३—पत्र ७२) ।

तिगिळ् सक [चिकित्स] प्रतीकार करना,
इलाज करना, दवा करना । तिगिळ्इ (उत्त
१६, ७६, पि २१५, ५५५) ।

तिगिळ् पु [चिकित्स] वैद्य, हकीम
(वव ५) ।

तिगिळ् पु [तिगिळ्] १ ब्रह्म-विशेष,
निषव पर्वत पर स्थित एक ब्रह्म (इक) । २
न देवविभाह-विशेष (सम ३८) ।

तिगिळ् न [चैकित्स] चिकित्सा-शास्त्र
(सिरि ५६) ।

तिगिळ्ग } वि [चिकित्सक] प्रतीकार
तिगिळ्गय } करनेवाला । २ पु वैद्य, हकीम
(ठा ४, ४, पि २१५, ३२७) ।

तिगिळ्ण न [चिकित्सन] चिकित्सा
(पिड १८८) ।

तिगिळ्गय न [चैकित्स्यं] चिकित्सा-कर्म
(ठा ६—पत्र ४५१) ।

तिगिळ्गा औ [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज,
दवा (ठा ३, ४) । °सत्य न [°शाख] आणुवेंद,
वैद्यकशास्त्र (राज) ।

तिगिळ्गायण न [तिगिळ्गायन] गोत्र-
विशेष (सुज्ज १०, १६) ।

तिगिळ् देखो तिगिळि (ठा २, ३—पत्र
८०, सम ८५, १०४, पि ३५४) ।

तिगिळ्गय पुं [चैकित्सि] वैद्य, चिकित्सक
(पउम ८, १२४) ।

तिग्ग वि [तिभ] तीक्ष्ण, तेज (हे २, ६२) ।
तिग्घ वि [त्रि] तिगुना, तीन-गुना (राज) ।

तिचूड पु [त्रिचूड] विद्याधर वश का एक
राजा (पउम ५, ४५) ।

तिजड पु [त्रिजट] १ विद्याधर वश के एक
राजा का नाम (पउम १०, २०) । २ राजस
वश का एक राजा (पउम ५, २६२) ।

तिजामा } औ [त्रियामा] राति, रात (कुप्र
तिजामी } २४७, २भा) ।

तिज्ज वि [तार्थ] तैरने योग्य (भास ६३) ।
तिडु पुत्री [दे] अन्न-नारा करनेवाला कीट,
टिड्डी (जी १८) । औ °ड्डी (सुपा ५४६) ।
तिडुव सक [ताडय्] ताडन करना ।
तिडुवइ (प्राह ७६) ।

तिण न [टण] टण, घास (सुपा २३३,
अभि १७५, स १७६) । °सूय न [°शूक] टण
का अन्न भाग (भग १५) । °हथय पु
[°हस्तक] घास का पूला (भग ३, ३) ।
तिणिस पु [तिनिश] वृक्ष-विशेष, वेंत (ठा
४, २, कम्म १, १६, औप) ।

तिणिस न [दे] मधु-पाल, मधुपुडा (दे ५,
११, ३, १२) ।

तिणिस वि [तैनिश] तिनिश-वृक्ष-सबवो,
वेंत का (राय ७४) ।

तिणीक्य वि [टणीकृत] टण-तुल्य माना
हुमा (कुप्र ५) ।

तिण्ण } अक [तिम्] १ आद्र होना ।
तिण्णाअइ } २ सक आद्र करना । तिण्णा-
अइ (प्राह ७७) ।

तिण्ण वि [तीर्ण] १ पार पहुँचा हुआ (औप) ।
२ शक्त, समर्थ (से ११, २१) ।

तिण्ण न [स्त्तैय] चोरी, 'तिलतिण्णतप्पो'
(उप ५६७ टी) ।

तिण्ण° देखो ति = वि । °भंग वि [°भङ्ग]
वि-खण्ड, तीन खण्डवाला (अभि २२४) ।
°विह वि [°विध] तीन प्रकार का (नाट—
चैत ४३) ।

तिण्णिअ पु [तिन्निक] देखो तित्तिअ =
तित्तिक (इक) ।

तिण्ह देखो तिकख (हे २, ७५, ८२, पि
३१२) ।

तिण्हा देखो तण्हा (राज, वज्जा ६०) ।

वितउ पु [वितउ] चालनी या चलनी, घाटा,
आटा या मैदा छानने का पात्र (प्राया) ।

वितय देखो तिअय (वव १) ।

वितिकख देखो तिइक्ख। तितिकखइ,
वितिकखए (कम्प, पि ४५७) । वड्ढ,
वितिकखमाण (राज) ।

वितिकखण न [वितिकखण] सहन करना
(ठा ६) ।

वितिकखया देखो वितिकखया (पिड ६६६) ।

गेअव्व देखो गी = नी ।

गेआइअ } वि [नैयायिक, न्याय्य] न्याय
गेआउअ } से अभावित, न्यायानुगत, न्यायो-
चित, 'गेआइअस्स मग्गस्स दुट्ठे अवयरई वहू'
(सम ५१, औप, परह २, १) ।

गेआउय } वि [नेत्] १ ले जानेवाला
गेउ } (सूत्र १, ८, ११) । २ प्रयेता,
रचयिता (सूत्र १, ६, ७) ।

गेआवण न [नायन] अन्य-द्वारा नयन,
पहुंचाना (उप ७४६) ।

गेआविअ वि [नायित] अन्य द्वारा ले जाया
गया, पहुँचाया हुआ (स ४२, कुप्र २०७) ।

गेउ वि [नेत्] नेता, नायक (पउम १४,
६२, सूत्र १, ३, १) ।

गेउआण } देखो गी = नी ।
गेउ }

गेउड्ड पु [दे] सद्भाव, शिष्टता (दे ४,
४४) ।

गेउण न [नैपुण] निपुणता, चतुराई (अभि
१३२) ।

गेउणिअ वि [नैपुणिक] १ निपुण, चतुर
(ठा ६) । २ न अनुप्रवाद-नामक पूर्व ग्रन्थ
की एक वस्तु (विसे २३६०) ।

गेउणिअ देखो गेउण्ण (वस ६, २, १३) ।

गेउण्ण } न [नैपुण्य] निपुणता, चतुराई
गेउन्न } (वस ६, २, सुपा २६३) ।

गेउर न [नूपुर] झी के पाँव का एक आभू-
पण, पायल (हे १, १२३, गा १८८) ।

गेउररु वि [नूपुरवत्] नूपुरवाला (पि
१२६, गउड) ।

गेऊण } देखो गी = नी ।
गेँत }

गेँत देखो गी = गम् ।

गेकत देखो णिकत (गा ११) ।

गेग देखो गेअ = नैक (कुमा, परह १, ३) ।

गेगम पु [नैगम] १ वस्तु के एक अर्थ को
स्वीकारनेवाला पक्ष-विशेष, नय विशेष (ठा
७) । २ वणिक्, व्यापारी, 'जिण्णवम्म-
भाविण्ण, न केवल घम्मओ षण्णाओवि ।
नेगमअइहियसहमो, जेण कम्मो अण्णओ
सरिस्सो' (आ २७) । ३ न व्यापार का
स्थान (आचा २, १, २) ।

गेगुण्ण न [नैगुण्य] निपुणता, नि सारता
(भत्त १६३) ।

गेचइय पुं [नैचयिक] धान्य आदि का
थोकबन्द व्यापारी (वव ४) ।

गेच्छइअ वि [नैश्चयिक] निश्चयन-
सम्मत, निरुपचरित, शुद्ध (विसे २८२) ।

गेच्छत वि [नेच्छत्] नहीं चाहता हुआ
(हेका ३०६) ।

गेच्छिय वि [नैच्छित्त] इच्छा का अविषय,
अनभिलषित (जीव ३) ।

गेट्टिअ वि [नैट्टिक] पर्यन्त-वर्ती (परह
२, ३) ।

गेड देखो णिड्डु (कुमा, हे १, १०६) ।

गेडाली झी [दे] सिर का भूषण-विशेष
(दे ४, ४२) ।

गेडु देखो णिड्डु (हे २, ६६, अग्र, षड्) ।

गेड्डरिआ झी [दे] भाद्रपद मास की शुक्ल
दशमी का एक उत्सव (दे ४, ४५) ।

गेत्त पुन [नेत्र] नयन, आँख, चक्षु (हे १,
३३, आचा) ।

गेत्त पु [नेत्र] वृक्ष-विशेष (सूत्र २, २, १८) ।

गेहा देखो णिहा (पि १६२, नाट) ।

गेपाल देखो गेवाल (उप पृ ३६७) ।

गेम स [नेम] १ अर्थ, आवा (प्राभा) । २
न मूल, जड (परह १, ३, मग) ।

गेम न [दे] कार्य, काज (राज) ।

गेम पुन [दे] कार्य, काम, काज (पिड ७०) ।

गेम देखो गेम्म = दे (परह २, ४ टी—पत्र
१३३) ।

गेमाल पु. व [नेपाल] एक भारतीय देश,
नेपाल (पउम ६८, ६४) ।

गेमि पुं [नेमि] १ स्वनाम-ख्यात एक जिन-
देव, वाइसवें तीर्थकर (सम ४३, कप्प) ।
२ चक्र की धारा (ठा ३, ३, सम ४३) । ३
चक्र परिधि, चक्के का घेरा (जीव ३) । ४
आचार्य हेमचन्द्र के मातुल—मामा का नाम
(कुप्र २०) । ५ चद पु [चन्द्र] एक जैना-
चार्य (सार्च ६२) ।

गेमित्त देखो णिमित्त (आवम) ।

गेमित्ति वि [निमित्तिन्] निमित्त-शास्त्र
का जानकार (सुर १, १४४, सुपा १५४) ।

गेमित्तिअ } वि [नैमित्तिक] १ निमित्त-
गेमित्तिग } शास्त्र से सन्ध रखनेवाला (सुर
६, १७७) । २ कारणिक, निमित्त से होने-
वाला; कारण से किया जाता, कदाचित्क,
'उववासो गेमिन्तिगमो जग्गो भण्णिओ' (उप
६८३, उवर १०७) । ३ निमित्त शास्त्र का
जानकार (सुर १, २३८) । ४ न. निमित्त
शास्त्र (ठा ६) ।

गेमी झी [नेमी] चक्र धारा (दे १, १०६) ।

गेम्म वि [दे. निभ] तुल्य, सदृश, समान
(परह २, ४—पत्र १३०) ।

गेम्म देखो गेम = नेम (परह १, ५—पत्र
६४) ।

गेरइअ वि [नैरयिक] १ नरक-संबन्धी, नरक
मे उत्पन्न (हे १, ७६) । २ पु. नरक का
जीव, नरक मे उत्पन्न प्राणी (सम २, विपा
१, १०) ।

गेरइअ वि [नैरुत्तिक] नैरुत्त कोण, दक्षिण-
पश्चिम दिशा (अणु २१५) ।

गेरई झी [नैरुत्ती] दक्षिण और पश्चिम के
बीच की दिशा (सुपा ६८, ठा १०) ।

गेरुत्त न [नैरुत्त] १ व्युत्पत्ति के अनुसार
अर्थ का वाचक शब्द (अणु) । २ वि निरुत्त
शास्त्र का जानकार (विसे २४) ।

गेरुत्तिय वि [नैरुत्तिक] व्युत्पत्ति-निष्पन्न
(विसे ३०३७) ।

गेरुत्ती झी [नैरुत्ति] व्युत्पत्ति (विसे २१८२) ।

गेल वि [नैल] नील का विकार (भग, औप) ।

गेलळण देखो णिलळण (स ६६६) ।

गेलन्ञ पु [दे] नपुंसक, पड (दे ४, ४४,
पाग्र, हे २, १७४) । २ वृषभ, बैल (दे
४, ४४) ।

गेलय पु [दे नेलन] रुपया (पव १११) ।

गेलिच्छी झी [दे] कूपतुला, डेंकवा (दे
४, ४४) ।

गेल्लच्छ देखो गेल्लच्छ (पि ६६) ।

गेव देखो गेअ = नैव (उव, पि १७०) ।

गेवच्छ देखो गेवत्थ (से १२, ६७, प्रति
६, औप, कुमा, पि २८०) ।

गेवच्छण न [दे] अवतारण, नीचे उतारना
(दे ४, ४०) ।

गेवच्छिय देखो गेवत्थिय (पि २८०) ।

तिम्म अक्क [स्तीम्] भोजना, आद्रं होना ।
वक्क तिम्ममाण (पद्य ३५, २०) ।

तिम्म सक [तिम्] १ आद्रं करना । २
अक. गीला होना । तिम्मइ (प्राक्क ७७) ।
संक्र. तिम्मैउ (पिंड ३५०) ।

तिम्म देखो तिग्गा (हे २, ६२) ।

तिम्मिअ वि [स्तीमित] आद्रं, गीला, (दे
१, ३७) ।

तिया बी [स्त्रिका] बी, महिला, 'होही तुय
तियवण्णा फुड जओ एरिथिमे जीव' (सुख
४, ६) ।

तियाल देखो ते-आलीस (कम्म ६, ६०) ।

तिरक्कर सक [तिरस् + क्क] तिरस्कार करना,
अवधीरणा करना । क्क तिरक्करणीअ (नाट) ।

तिरक्कार पुं [तिरस्कार] तिरस्कार, अपमान,
अवहेलना (प्रबो ४१, सुपा १४४) ।

तिरक्करिणी } बी [तिरस्करिणी] यवनिका,
तिरक्करिणी } परदा (वि ३०६, अभि
१८६) ।

तिरन्च् देखो तिरिच्छ (प्राक्क १६, ३८) ।

तिरि } अ [तिर्यक्] तिरछा, टेढा (प्राक्क
तिरिअ } ८०, १६) ।

तिरिअ वि [तैरअ] तिर्यच का, 'तिरिया
मरुया य दिव्वगा उवसग्गा तिविहाहियासिया
(सुअ १, २, २, १५) ।

तिरिअ } वि [तिर्यच्] १ वक्क, कुटिल,
तिरिअच } बाँका (चद २, उप पृ ३६६,
तिरिअच } सुर १३, १६३) । २ पु पशु,
तिरिअच } पक्षी आदि प्राणी, देव, नारक
और मनुष्य से भिन्न योनि मे उत्पन्न जन्तु
(षण ४४, हे २, १४३, सुअ १, ३, १,
उप पृ १८६, प्रासू १७६, महा, आरा ४६,
पद्य २, ५६, जो २०) । ३ मर्त्यलोक, मध्य
लोक (ठा ३, २) । ४ न मध्य, बीच,
(अणु, भग १४, ५), 'तिरिय असंखेआण
दीवसमुदाएण मज्झ मज्जेए जेएव जडुहीवे
दीवे' (कम्प) । ५ गइ बी [गति] १ तिर्यग्-
योनि (ठा ५, ३) । २ वक्क गति, टेढ़ी चाल,
कुटिल गमन (चद २) । ३ जभग पुं
[जम्भक] देवों की एक जाति (कम्प) ।
४ जोगि बी [योनि] पशु, पक्षी आदि का

उत्पत्ति-स्थान (महा) । ५ जोगिअ वि
[योनि] तिर्यग्-योनि में उत्पन्न (सम २,
भग, जीव १, ठा ३, १) । ६ जोगिणी बी
[योनि] तिर्यग्-योनि मे उत्पन्न बी
जन्तु, तिर्यक् बी (परए १७—पत्र ५०३) ।
७ दिसा दिसि बी [दिश] पूर्व आदि
दिशा (आवम, उवा) । ८ पठ्वय पु [पर्वत]
बीच मे पडता पहाड, मार्गावरोधक पर्वत
(भग १४, ५) । ९ भित्ति बी [भित्ति]
बीच की भीत (आचा) । १० लोग पु [लोक]
मर्त्य लोक, मध्य लोक (ठा ५, ३) । ११ वसइ
बी [वसति] तिर्यग्-योनि (परए १, १) ।
तिरिच्छ वि [तिरश्चीन] १ तिर्यग् गत
टेढा गया हुआ (राज) । २ तिर्यग्-सवन्वी
(उत्त २१, १६) ।

तिरिच्छि देखो तिरिअ (हे २, १४३, पड्) ।
तिरिच्छिय देखो तेरिच्छिय (आचा २, १५,
५) ।

तिरिच्छी बी [तिरश्ची] तिर्यक् बी (कुमा) ।
तिरिड पु [दे] एक जाति का पेड, तिमिर
वृक्ष (दे ५, ११) ।

तिरिडिअ वि [दे] १ तिमिर-युक्त । २ विचित्र
(दे ५, २१) ।

तिरिडि पु [दे] उष्ण वात, गरम पवन (दे
५, १२) ।

तिरिडि (मा) देखो तिरिच्छि (हे ४, २६५) ।
तिरीड पुन [किरिटी] युक्त, सिर का आभूषण
(परए १, ४, सम १५३) ।

तिरीड पु [तिरिटी] वृक्ष-विशेष (बृह २) ।
पट्टय न [पट्टक] वृक्ष-विशेष की छाल का
बना हुआ कपडा (ठा ५, ३—पत्र ३३८) ।

तिरीडि वि [किरिडिच] युक्त-युक्त, युक्त-
विभूषित (उत्त ६, ६०) ।

तिरोभाव पु [तिरोभाव] लय, अन्तर्धान
(विसे २६६६) ।

तिरोचइ वि [दे] वृत्ति से अन्तर्हित, बाह से
व्यवहित (दे ५, १३) ।

तिरोहा सक [तिरस् + धा] अन्तर्हित करना,
लोप करना, अदृश्य करना । तिरोहति (धर्माँ
२४) ।

तिरोहिअ वि [तिरोहित] युक्त, अन्तर्हित,
अदृश्य, आच्छादित, ढका हुआ (राज) ।

तिल पु [तिल] १ स्वनाम प्रसिद्ध अन्न-विशेष,
तिल (गा ६६५, खाया १, १, प्रासू ३४,
१०८) । २ ज्योतिष्क देव-विशेष, ग्रह-विशेष (ठा
२, ३) । कुट्टी बी [कुट्टी] तिल की बनी हुई
एक भोज्य वस्तु, तिलकुट (धर्म २) । ३ पट्ट-
डिया बी [पट्टिका] तिल की बनी हुई एक
खाद्य चीज, तिल-पापड (परए १) । ४ पुष्पवण्ण
पु [पुष्पवर्ण] ज्योतिष्क देव-विशेष, ग्रह-
विशेष (ठा २, ३) । मल्ली बी [मल्ली]
एक खाद्य वस्तु (धर्म २) । ५ सगलिया बी
[सगलिया] तिल की फली (भग १५) ।
सक्कुलिया बी [शक्कुलिका] तिल की
बनी हुई खाद्य वस्तु-विशेष, तिलखुनिया (राज) ।

तिलाइअ वि [तिलकित] तिलक की तरह
आचरित, विभूषित, 'जयजयसइतिलइओ
मंगलज्जुणी' (धर्माँ ६) ।

तिलाग पु [तिलङ्ग] देश-विशेष, एक भारतीय
दक्षिण देश, आद्य प्रात (कुमा, इक) ।

तिलगकरणी बी [तिलकरणी] १ तिलक
करने की सलाई । २ गोरोचना, पीले रंग का
एक सुगंधित द्रव्य, जो नाय के पिताशय से
निकलता है (सुअ १, ४, २, १०) ।

तिलग } पु [तिलक] १ वृक्ष विशेष (सम
तिलय } १५२, श्रौच, कम्म, खाया १, ६,
उप ६८६ टी, गा १६) । २ एक प्रतिवासु-
देव राजा, भरतसेत्र मे उत्पन्न पहला प्रति-
वासुदेव (सम १५४) । ३ द्वीप-विशेष । ४
समुद्र-विशेष (राज) । ५ न पुष्प-विशेष
(कुमा) । ६ टोका, लसाट मे किया जाता
चन्दन आदि का चिह्न (कुमा धर्माँ ६) । ७
एक विद्याधर-नगर (इक) ।

तिलवट्टी बी [तिलपर्यटी] तिल की बनी हुई
एक खाद्य वस्तु, तिलपट्टी (पव ४ टी) ।

तिलितिलय पु [टे] जल-जन्तु विशेष (कम्प) ।

तिलिमि बीन [टे] वाद्य-विशेष (सुपा २४२,
सण) । बी [मा] (सुर ३, ६८) ।

तिलुक्क न [त्रैलोक्य] स्वर्ग, मर्त्य और
पाताल लोक (द २३) ।

तिलुत्तमा देखो तिलोत्तमा (सम्मत १८८) ।

तिलोए न [तिलैल] तिल का तेल (कुमा) ।
तिलोक्क देखो तिलुक्क (सुर १, ६२) ।

(पि ३१३) । वक्र. पहायमाण (राया १, १३) । सङ्ग पहाइत्ता, पहाणित्ता (पि ३१३) ।

पहाण न [स्नान] नहाना, नहान (कप्प, प्राप्र) । पीठ पुन [पीठ] स्नान करने का पट्टा (राया १, १) ।

पहाणमल्लिया ली [स्नानमल्लिका] स्नान-योग्य पुष्प-विशेष, मालती-पुष्प (राय ३४) ।

पहाणिआ ली [स्नानिका] स्नान-क्रिया (पह २, ४—पत्र १३१) ।

पहाणिय वि [स्नानित] जिसने स्नान किया हो वह (पव ३८) ।

पहाय वि [स्नात] जिसने स्नान किया हो वह, नहाया हुआ (कप्प, श्रौप) ।

पहायमाण देखो पहा

पहारु न [स्नायु] १ अस्थि-बन्धनी सिरा, नस, धमनी (सम १४६, पह १, १, ठा २, १, आचा) । २ अष्टादश श्रेणी मे की एक श्रेणी, कुम्हार, पटेल आदि (लोकप्रकाश ४६४ पत्र, सर्ग ३१) ।

पहाव देखो पहाव । रहावइ, रहावेइ (भवि, पि ३१३) । वक्र पहावअत (पि ३१३) । सङ्ग. पहाविऊण (महा) ।

पहाविअ वि [स्नापित] नहलाया हुआ,

जिसको स्नान कराया गया हो सह (महा भवि) ।

पहाविअ पुं [नापित] हजाम, नाई (हे १, २३०, कुमा), 'वेत्तूण एहाविय प्रागएण मु डाविओ कुमरो' (उप ६ टी) । °पसेवय पु [°प्रसेवक] नाई की अपने उपकरण रखने की थैली (उत्त २) ।

पहु अ [दे] निश्चय-सूचक अव्यय (जीवस १८०) ।

पहुसा ली [स्तुवा] पुन वद्ध, पुन की भार्या पतोहू (आवम, पि ३१६) ।

पहुहा देखो पहुसा (सिरि २५१) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवे णआराइसद्सकलणो, अइएसेण नआराइसद्सकलणो वाईसद्मो तरगो समत्तो ॥

त

त पु [त] वन्त-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप्र, प्रामा) ।

त म [तन्] वह (ठा ३, १, हे १, ७, कप्प, कुमा) ।

तं स [त्वत्] तु । °कय वि [°कृत] तेरा किया हुआ (स ६८०) ।

तं देखो तथा = त्वच् । °होसि वि [°होपिन्] १ चर्म-रोगी । २ कुष्ठी (पिड ४७५) ।

तअ देखो तय = तपस् (हास्य १३५) । तइ वि [तति] उतना (द्व १) ।

तइ (अप) अ [तत्र] वहां, उसमे (पड) ।

तइ अ [तदा] उस समय (प्राप्र) ।

तइअ वि [तृतीय] तीसरा (हे १, १०१, कुमा) ।

तइअ (अप) वि [त्वतीय] कुम्हारा (भवि) ।

तइअ अ [तत्र] व-समय, भणियो रुना मती,

मत्सागर तइय पन्वयतेण ।

ताएण अह भणियो,

भणियो ठाणम्मि दायव्वां

(सुर १, १२३) ।

तइअहा (अप) अ [तदा] उस समय (भवि, सण) ।

तइआ अ [तदा] उस समय (हे ३, ६५, गा ६२) ।

तइआ ली [तृतीया] तिथि-विशेष, तीण (सम २६) ।

तइया ली [तृतीया] तीसरी विभक्ति (चेइय ६८३) ।

तइल देखो तेह (उप ६२६) ।

तइलोई ली [त्रिलोकी] तीन लोक—स्वर्ग, मर्त्य और पाताल (सुपा ६८) ।

तइलोक्क } न [त्रैलोक्य] ऊपर देखो तइलोय } (पजम ३, १०५, म, २०२, स ५७१, सुर ३, २०, सुपा २८२, ३५, ४४८) ।

तइस (अप) वि [तादृश] वैसा, उस तरह का (हे ४, ४०३, पड) ।

तई ली [त्रयी] तीन का समुदाय (सुपा ५८) ।

तईअ देखो तइअ = तृतीय (गा ४११, भण) ।

तउ } न [त्रपु] धातु-विशेष, सीसा, तउअ } रंगा (सम १२५, श्रौप, उप ६८६ टी, महा) । °वट्टिआ ली [°पट्टिका] कान, का आभूषण-विशेष (दे ५, २३) ।

तउस न [त्रपुष] देखो तउसी (राज) । °मिजिया ली [°मिजिका] क्षुद्र कीट-विशेष, शीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (जीव १) ।

तउस न [त्रपुष] खीरा, ककडी (दे ८, ३५) ।

तउसी ली [त्रपुपी] कर्कटी-वृक्ष, खीरा क गाळ (गा ५३४) ।

तए अ [ततस्] उससे, उस कारण से । २ वाद मे (उत्त १, विपा १, १) ।

तएयारिस वि [त्वाटश] तुम जैसा, कुम्हारी तरह का (स ५२) ।

तओ देखो तए (ठा ३, १, प्रासू ७८) ।

तुंगिया स्त्री [तुङ्गिका] नगरी-विशेष (भग) ।
तुंगियायण न [तुङ्गिकायन] एक गोत्र का नाम (कम्प) ।

तुगी स्त्री [दे] १ रात्रि, रात (दे ५, १४) ।
१ आद्युष-विशेष, 'असिपरसुखुततुगीसघट्ट—' (काल) ।

तुगीय पु [तुङ्गीय] पर्वत-विशेष (सुर १, २००) ।

तुङ्ग स्त्री [तुण्ड] १ मुख, मुँह (गा ४०२) ।
२ अग्र-भाग (निचू १) । स्त्री 'डी, किं नोवि जीवियत्थी कडुयइ अहिस्स तुडीए' (सुभा ३२२) ।

तुङ्ग न [दे] मधुर-विम्बी-फल (दे ५, ११) ।

तुङ्ग पु [दे] जीर्ण घट, पुराना घटा (दे ५, १५) ।

तुङ्गखुडिअ वि [दे] खरा-युक्त (दे ५, १६) ।

तुङ्ग [तुन्द] उदर, पेट (दे ५, १४, उप २८ टी) ।

तुङ्ग वि [तुन्दिल] बडा पेटवाला, तोदैल तुङ्गिअ (कम्प, पि ५६५, उत ७) ।

तुव १ [तुम्ब] तुम्बी, अलावू, लौकी (पञ्च २१, ३४, ओघ ३८, कुप्र १३६) । २ गाढी की नामि, 'न हि तुवम्मि विण्णुए' अरया साङ्गारया हृति' (आवम) । ३ 'जाताधर्मकथा' सुप का एक अध्ययन (सम) । ४ घण न [वन्] सनिवेश-विशेष, एक गवि का नाम (साव २५) । ५ वीण वि [वीण] वीणा-विशेष को बजानेवाला (जीव ३) । ६ वीणिय वि [वीणिक] वही पूर्वोक्त अर्थ (ओप, परए २, ४, याया १, १) ।

तुव न [तुम्ब] पहिए के बीच का गोल अव-गव (एदि ४३) । १ वीणा स्त्री [वीणा] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

तुवरु देखो तु वुरु (इक) ।

तुव स्त्री [तुम्बा] लोकपाल देवो की एक अभातर परिपद् (ठा ३, २) ।

तुवग पुन [तुम्बक] कद्दू, लौकी (दस ५, १ ७०) ।

तुविणी स्त्री [तुम्बिनी] बल्ली-विशेष (दे ४, ४२७, राज) ।

तुविल्ली स्त्री [दे] १ मधुपटल, मधुपुडा ।
२ उदूखल, ऊखल (दे ५, २३) ।

तुवी स्त्री [तुम्बी] १ तुम्बी, अलावू, लौकी, कद्दू (दे ५, १४) । २ जैन साधुओ का एक पात्र, तपरनी (सुपा ६४१) ।

तुवुरु पु [तुम्बुरु] १ वृक्ष-विशेष, टिब्रू का पेड़ (दे ४, ३) । २ गन्धर्व देवो की एक जाति (परए १, सुपा २६४) । ३ भगवान् सुमतिनाथ का शासनाधिष्ठायक देव (सति ७) । ४ शक्रदे के गन्धर्व-सैन्य का अविपाति देव-विशेष (ठा ७) ।

तुक्खार पु [दे] एक उत्तम जाति का अश्व या घोडा, 'अन्न च तत्थ पत्ता तुक्खारुतरगमा बहुविहीया' (सुर ११, ४६, भवि) । देखो तोक्खार ।

तुच्छ पुत्री [तुच्छा] रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्वशी तिथि (सुज्ज १०, १५) ।

तुच्छ वि [दे] अशुभ, सूखा, नीरस (दे ५, १४) ।

तुच्छ वि [तुच्छ] १ हलका, जघन्य, निकट, हीन (याया १, ५, प्रासू ६६) । २ अल्प, थोडा (भग ६, ३३) । ३ शून्य, रिक्त, खाली (आचा) । ४ असार, नि सार (भग १८, ३) । ५ अपूर्ण (ठा ४, ४) ।

तुच्छइअ वि [दे] रजित, अनुराग-प्राप्त तुच्छय (दे ५, १५) ।

तुच्छिम पुत्री [तुच्छत्व] तुच्छता (वज्जा १५६) ।

तुज्ज न [तूर्य] वाद्य, बाजा (सुज १०) ।

तुट्ट अक [तुट्ट, तुट्ट] १ दृटना, छिन्न होना, खरिडत होना । २ दृटना, घटना, बीतना । तुट्ट (महा, सण, हे ४, ११६), 'अणवरय देतस्सवि तुट्ट ति न सायरे रयणाइ' (वजा १५६) । बद्ध तुट्टत (सण) ।

तुट्ट वि [तुट्टित] दृष्ट हुआ, छिन्न, खरिडत (स ७१८, सूक्त १७, दे १, ६२) ।

तुट्टण न [त्रोटन] विच्छेद, घृयनकरण (सुस १०, १, १, वजा ११६) ।

तुट्टिअ वि [तुट्टित, तुडित] छिन्न, खरिडत (सुमा) ।

तुट्टि वि [त्रुटिट्ट] दृष्टनेवाला (कुमा, सण) ।

तुट्ट वि [तुट्ट] तोष-प्राप्त, तुष, सतुष्ट बुध (सुर ३, ४१, उवा) ।

तुट्टि स्त्री [तुट्टि] १ खुशी, आनन्द, सतोप (स २००, सुर ३, २५, सुपा २४६, निर १, १) । २ कृपा, मेहरवानी (कुप्र १) ।

तुट्ट अक [तुट्ट] दृटना, अलग होना । तुट्ट (हे ४, ११६) ।

तुडि स्त्री [त्रुटि] १ न्यूनता, कमी । २ दोष, दूषण (हे ४, ३६०) । ३ सशय, सदेह (सुर ३, १६१) ।

तुडिअ न [तुट्टिक] अन्त पुर, रनवास, 'तुट्टिकमन्त पुरमपदिरथते' (जीवाभि-० बू०) ।

तुडिअ न [तुट्टिक] अन्त पुर, जनानखाना (सुज १८—पत्र २६५) ।

तुडिअ वि [त्रुटिन] दृष्ट हुआ, विच्छिन्न (अन्वु ३३, दे १, १५६, सुपा ८५) ।

तुडिअ न [दे, त्रुटित] १ वाद्य, वादिन, बाजा (ओप, राय, ज ३, पएह २, ५) । २ वाहु-रक्षक, हाथ का आभरण-विशेष (ओप, ठा ८, पचम ८२, १०४, राय) । ३ सख्या-विशेष, 'तुडिअंग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक, ठा २, ४) । ४ साँधा, फटे हुए वस्त्र आदि में लगायी जाती पट्टी, पेवन (निचू २) ।

तुडिअग न [दे त्रुटिताङ्ग] १ सख्या-विशेष, 'पूर्व' को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक, ठा २, ४) । २ पु वाद्य देनेवाला कल्प-वृक्ष (ठा १०, सम १७, पचम १०२, १२३) ।

तुडिआ स्त्री [तुडिता] लोकपाल देवो के अग्र महिषियो की मध्यम परिपद् (ठा ३, २) ।

तुडिआ स्त्री [दे तुट्टिका] वाहु-रक्षिका, हाथ का आभरण-विशेष (पएह १, ४, याया १, १, टी—पत्र ४३) ।

तुणय पु [दे] वाद्य-विशेष (दे ५, १६) ।

तुण्णग देखो तुण्णग (राज) ।

तुण्णण न [तुण्णन] फटे हुए वस्त्र का सन्धान (उप ४ ४३३) ।

तुण्णग पु [तुण्णवाय] वस्त्र को संधने-तुण्णाय } वाला, रफू करनेवाला, शिथली (एदि, उप ४ २१०, महा) ।

तक पुं [तर्क] १ विमर्श, विचार, अटकल-
ज्ञान (आ १२, ठा ६) । २ न्याय-शास्त्र (सुपा
२८७) ।

तकणा ली [दे] इच्छा, अभिलाष (दे ५, ४) ।
तक्य वि [तर्कक] तर्क करनेवाला (परह
१, ३) ।

तकर पु [तस्कर] चोर (हे २, ४, औप) ।
तकालि ली [दे] कदली-बुझ, केले का गाछ
(आचा २, १, ८, ६) ।

तकालि } ली [दे] बलयाकार वृत्त-विशेष
तकली } (परण १) ।

तका ली [तर्क] देखो तक = तर्क (ठा १-
सूत्र १, १३, आचा) ।

तकाल किवि [तरकाल] उसी समय (कुमा) ।

तक्किअ वि [तार्किक] तर्कशास्त्र का जानकार
(अच्छु १०१) ।

तक्कियाण देखो तक = तर्क ।

तक्कु पुं [तर्कु] सूत बनाने का यन्त्र, तकुआ,
तकला, चरबा (दे ३, १) ।

तक्कुय पुं [दे] स्वजन-वर्ग, 'सम्माणिया
सामता, अहिएविया नायरया, परिओसिआ
तक्कुयणणा ति' (स ५२०) ।

तक्ख सक [तक्ष्] छिलना, काटना ।
तक्खइ (षड्, हे ४, १६४) । कर्म तक्ख-
जइ (कुप्र १७) । वक्क तक्खमाण (अणु) ।

तक्ख पु [ताक्ष्य] गूढ पक्षी (पात्र) ।

तक्ख पु [तक्षन्] १ लकड़ी काटनेवाला,
बढ़ई । २ विश्वकर्मा, शिल्पी-विशेष (हे ३,
५६, पड्) । ३ शिला ली [शिखा] प्राचीन
ऐतिहासिक नगर, जो पहले बाहुबलि की
राजधानी थी, यह नगर पजाब में है (पउम
४, ३८, कुप्र ५३) ।

तक्खण पु [तक्ष्ण] १-२ ऊपर देखो । ३
स्वनाम-प्रसिद्ध सर्प-राज (उप ६२५) ।

तक्खण न [तत्क्षण] १ तत्काल, उसी समय
(ठा ४, ४) । २ किंवि शीघ्र, तुरन्त (पात्र) ।

तक्खण देखो तक्खण (स २०६, कुप्र
१३६) ।

तक्खण देखो तक्खण = तक्खन् (हे ३, ५६,
पड्) ।

तगर देखो टगर (परह २, ५) ।

तगरा ली [तगरा] सन्निवेश-विशेष (स
४६८)

तगरा ली [तगरा] एक नगरी का नाम (सुख
२, ८) ।

तगग न [दे] सूत्र-वक्त्रण, धागे का कक्कण
(दे ५, १, गउड) ।

तगगंधिय वि [तद्गन्धिक] उसके समान
गधवाला (प्रासु ३४) ।

तक्ष वि [तृतीय] तीसरा (सम ८, उवा) ।

तक्ष न [तत्त्व] सार, परमार्थ (आचा, आरा
११५) । १ वाय पुं [वाद्] १ तत्त्व-वाद,
परमार्थ-वर्चा । २ दृष्टिवाद, जैन अंग-अथ-
विशेष (ठा १०) ।

तक्ष न [तथ्य] १ सत्य, सचाई (हे २, २१,
उत्त २८) । २ वि वास्तविक, सत्य (उत्त
३) । ३ स्थ पु [थ्य] सत्य, हकीकत (पउम
३, १३) । ४ वाय पु [वाद्] देखो ऊपर
१ वाय (ठा १०) ।

तक्ष अ [त्रि] तीन बार (भग, सुर २,
२६) ।

तक्षित्त वि [तक्षित्त] उसी में जिसका मत
लगा हो वह, तल्लीन (विपा १, २) ।

तच्छ सक [तक्ष्] छिलना, काटना । तच्छइ
(हे ४, १६४, पड्) । सक तच्छिय (सूत्र
१, ४, १) । कवक, तच्छिज्जांत (सुर १,
२८) ।

तच्छ } वि [तष्ट] छिला हुआ, तद्रुद्धत,
तच्छिअ } 'ते भिन्नदेहा फलण तच्छा' (सूत्र
१, ५, २, १४, १, ४, १, २१, उत्त १६,
६६) ।

तच्छण लीन [तक्ष्ण] छिलना, कर्तन (परह
१, १) ली णा (शाया १, १३) ।

तच्छिड वि [दे] कराल, भयकर (दे ५,
३) ।

तच्छिज्जात देखो तच्छ ।

तच्छिल वि [दे] तत्पर (षड्) ।

तजा देखो तया = त्वच् (दे १, १११) ।

तज्ज सक [तर्जय्] तर्जन करता, भर्त्सन
करना । तज्जइ (भवि) । तज्जेइ (शाया १,
१८) वक्क तज्जत, तज्जित तज्जयत,
तज्जमाण, तज्जेमाण (भवि, सुर १२,
२३३, शाया १, ८, राज, विपा १, १—

पत्र ११) । कवक. तज्जिज्जात (उप्र पृ १३४,
उप १४६ टो) ।

तज्जण न [तर्जन] भर्त्सन, तिरस्कार (औप,
उव, पउम ६५, ५३) ।

तज्जणा ली [तर्जना] ऊपर देखो (परह
२, १, सुपा १) ।

तज्जणी ली [तर्जनी] दूसरी अंगुली, अंगूठे के
पासवाली अंगुली, अर्देशिनी (सुपा १, कुमा) ।

तज्जाय वि [तज्जात] समान जातिवाला,
तुल्य-जातीय (आव ४) ।

तज्जायिअ } वि [तज्जित] तज्जित, भर्त्सित
तज्जिअ } (स १२२, सुपा २६३, भवि) ।

तज्जित }
तज्जिज्जात } देखो तज्ज ।
तज्जेमाण }

तट्टवट्ट न [दे] आभरण, आभूषण,
संशय्य संशय्य बालत्तंणाओ

तट्टयाई तट्टवट्टाई ।
अवहरिवि नियघराओ

हारेइ रहम्मि खिल्लतो'
(सुपा ३६६) ।

तट्टिगा ली [दे तट्टिका] दिगवर जैन साधु
का एक उपकरण (धर्मस १०४६, १०४८) ।

तट्टी ली [दे] वृत्ति, वाड (दे ५, १) ।

तट्ट वि [त्रस्त] १ डरा हुआ, भीत (हे २,
१३६, कुमा) । २ न मुहूर्त-विशेष (सम
५१) ।

तट्ट वि [तष्ट] छिला हुआ (सूत्र १, ७) ।

तट्टव न [त्रस्तप] मुहूर्त-विशेष (सम ५१) ।

तट्टि वि [तष्टिन्] तद्रुद्धत, कृशतावाला (सूत्र
१, ७, ३०) ।

तट्टि } पु [त्वष्टृ] १ तसक, विश्वकर्मा
तट्टु } (गउड) । २ नक्षत्र-विशेष का आधि-
ष्ठापक देव (ठा २, ३) ।

तट्टु पु [त्वष्टृ] अहोरात्र का वारहवाँ
मुहूर्त (सुख १०, १३) ।

तड सक [तन्] १ विस्तार करना । २
करना । तडइ (हे ४, १३७) ।

तड पुंन [तट] किनारा, तीर (वाअ, कुमा) ।
स्थ वि [स्थ] १ मध्यस्थ, पक्षपात-हीन ।

२ समीप स्थित (कुमा, दे ३, ६०) ।

तडडडा [दे] देखो तडडडा (जीव ३,
क १) ।

तुलगा स्त्री [दे] यहच्छा, स्वैरिता, स्वेच्छा, अपनी मंशा (विक्र ३५)।

तुलगा न [तुलन] तौलना, तोलन (कम्प, वजा १५७)।

तुलगा स्त्री [तुलना] तौलना, तोलन (उप पु २७४, स ६६२)।

तुलगा स्त्री [तुलना] तौल, वजन (धर्मवि ६)।

तुल्य वि [तोलक] तौलनेवाला (सुपा १६७)।

तुलसिधा स्त्री [तुलसिका] नीचे देखो (कृमा)।

तुलसी स्त्री [दे तुलसी] लता-विशेष, तुलसी (दे ५, १४, परण १, ठा ८, पात्र)।

तुला स्त्री [तुला] १ राशि-विशेष (सुपा ३६)। २ तराजू, तौलने का साधन (सुपा ३६०, गा १६१)। ३ उपमा, सादृश्य (सूत्र २, २)। *सम वि [सम] राग द्वेषसे रहित, मध्यस्थ (बृह ६)।

तुला स्त्री [तुला] १०५ या ५०० पल का एक नाप (अणु १५४)।

तुलिअ वि [तुलित] १ उठायी हुआ, ऊँचा किया हुआ (से ६, २०)। २ तौला हुआ (पात्र)। उना हुआ (राज)।

तुलेअन्व देखो तुल।

तुल वि [तुल्य] समान, सरीखा (भग, प्राप् १२, १४६)।

तुलट्ट देखो तुयट्ट। तुलट्टे (वव ४)।

तुलट्ट पुं [त्वग्वर्त] शयन, लेटना (वव ४)।

तुवर अक [त्वर्] त्वरा होना, शीघ्र होना, तेज होना। तुवरइ (हे ४, १७०)। वक्र तुवरत (हे ४, १७०)। प्रयो वक्र तुवराअत (नाट—मालती ५०)।

तुवर पुन [तुवर] १ रस-विशेष, कषाय रस (दे ५, १६)। २ वि कषाय रसवाला, कसैला (से ८, ५५)।

तुवरा देखो तुरा (नाट—महावीर २७)।

तुवरी स्त्री [तुवरी] अन्न-विशेष, अरहर (आ १८, गा ३५८)।

तुस पु [तुप] १ कोद्वज—कोदव या कोदो आदि तुच्छ धान्य (अ ८)। २ धान्य का छिलका, भूसी (दे २, ३६)।

तुसणीअ वि [तूष्णीक] मौनी (अश्रु १७६)।

तुसली स्त्री [दे] धान्य-विशेष, 'त तल्यवि तो तुसल्लि वावइ सो किरिणिवि वरवीय' (सुपा ५४५), 'देवनिहे जतीए तुष्क तुसली अणुएणया' (सुपा १३ टि)।

तुसार न [तुषार] हिम, बर्फ, पाला (पात्र)। *कर पु [कर] चन्द्र, चन्द्रमा (सुपा ३३)।

तुसारअर देखो तुसार-कर (त्रि १०३)।

तुसिण देखो तुसणीअ (सबोध १७)।

तुसिणिय } वि [तूष्णीक] मौनी, चुप,
तुसिणीय } वचन-रहित (णाय १, १—
पत्र २८, ठा ३, ३)।

तुसिणी अ [तूष्णीम्] मौन, चुप्पी, 'तइमा तुसिणीए भुणए पढमो' (पिड १२२, ३१३)।

तुसिय पु [तुषित] लोकांतिक देवों की एक जाति (णाय १, ८, सम ८५)।

तुसेअजंभ न [दे] दारु, लकड़ी, काष्ठ (दे ५, १६)।

तुसोदग } न [तुषोदक] जीहि आदि का
तुसोदय } धौत-जल—बोधन (राज, कम्प)।

तुस्स देखो तूस = तुष्। तुस्सइ (विसे ६३२)।

तुहं स [स्वत्] तुम। *तणय वि [सध-
न्धिन्] तुम्हारा, तुमसे संबन्ध रखनेवाला (सुपा ५५३)।

तुहग पु [तुहग] कन्द की एक जाति (उत्त ३६, ६६)।

तुहार (अप) वि [त्वदीय] तुम्हारा (हे ४, ४३४)।

तुहिण न [तुहिन] हिम, तुपार, बर्फ (पात्र)। *इरि पु [गिरि] हिमाचल पर्वत (गजड)। *कर पुं [कर] चन्द्रमा (कम्प)। *गिरि देखो इरि (सुपा ६५८)। *लय पु [लय] हिमालय पर्वत (सुपा ८८)।

तुहिणायल पु [तुहिनाचल] हिमालय पर्वत (धर्मवि २४)।

तूअ पु [दे] ईल का काम करनेवाला (दे ५, १६)।

तूण पु न [तूण] इषुधि, भाषा, तरकस, तूणीर (हे १, १२५, षड्, कृमा)।

तूणइल्ल पुं [तूणावत्] तूणा नामक वाद्य बजानेवाला (परह २, ४, श्रौप, कम्प)।

तूणय पुं [तूणरु] वाद्य-विशेष (अचा २, ११, १)।

तूणा } स्त्री [तूणा] १ वाद्य-विशेष (राय,
तूणिं } अणु)। २ इषुधि, भाषा (ज ३, पि १२७)।

तूयरी स्त्री [तूवरी] रहुर, अरहर (पिड ६२३)।
तूर देखो तुरव। तूरइ (हे ४, १७१, षड्)।
वक्र तूरंत, तूरंत, तूरमाण, तूरेमाण (हे ४, १७१, सुपा २६१, षड्)।

तूर पु न [तूर्य] वाद्य, बाजा, तुरही (हे २, ६३, षड्, प्राप्)। *वइ पुं [पति] नदों का नदों का मुखिया (बृह १)।

तूरत } देखो तूर = तुरव।
तूरमाण }

तूरविअ वि [त्वरित] जिसको शीघ्रता कराई गई हो वह (से १२, ८३)।

तूरिय पुं [तूरियिक] वाद्य बजानेवाला, वज-
नियां (स ७०५)।

तूरी स्त्री [दे] एक प्रकार की मिट्टी (जी ४)।

तूरंत } देखो तूर = तुरव।
तूरेमाण }

तूल न [तूल] रूई, रूआ, बीज-रहित कपास (श्रौप, पात्र, भवि)।

तूलिअ न नीचे देखो, 'नणु विण्णसिज्जइ महण्णिय तूलिय गडुयमाइय' (महा)।

तूलिआ स्त्री [तूलिआ] १ रूई से भरा मोटा विछौना, गद्दा, तोशक (दे ५, २२)। २ तस-
वीर—चित्र बनाने की कलम (णाय १, ८)।

तूलिणी स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष, शालमली का पेड़ (दे ५ १७)।

तूलिअ वि [तूलिआवन्] तसवीर बनाने की कलमवाला, कूर्चिका-युक्त (गजड)।

तूली स्त्री [तूली] देखो तूलिआ (सुर २, ८२, पउम ३५, २४, सुपा २६२)।

तूवर देखो तुवर (विपा १, १—पत्र १६)।

तूस अक [तुप्] बुरा होना। तूसइ, तूसण (हे ४, २३६, ससि ३६, षड्)। कू-
तूसियच्च (परह २, ५)।

तूह देखो तित्य (हे १, १०४, २, ७२, कृमा दे ५, १६)।

तणुवी—तन्मत्ति

तणुवी } देखो तणुई (हे २, ११३,
तणुवीआ } कुमा)।

तणू की [तनु] शरीर काया (गा ७८,
पात्र, ६५)। २ ईषत्प्राग्भारा नामक पृथिवी
(ठा ८)। अ वि [ज] १ शरीर से
उत्पन्न। २ पु. लडका, पुत्र (उप १८६)।
अंतरा की [कतरा] ईषत्प्राग्भारा नामक
पृथिवी, जिसपर मुक्त जीव रहते हैं, सिद्ध-
शिला (सम २२)। रुह पुन [रुह] केश,
रोम, बाल (उप ५१७ टी)।

तणूय देखो तणुइअ (गडड)।

तणेण (अप) अ लिए, वास्ते (हे ४, ४२५,
कुमा)।

तणेसि पुं [दे] सुण-राशि (दे ५, ३, षड्)।

तण्णय पु [तण्णक] वत्स, बछडा (पात्र, गा
११, गडड)।

तण्णाय वि [दे] आद्र, नीला (दे ५, २,
पात्र, गडड, से १, ३१, ११, १२६)।

तण्हा की [तण्णा] १ प्यास, पिपासा
(पात्र)। २ स्थूहा-वाण्डा, इच्छा (ठा २, ३,
श्रीप)। लु, लुअ वि [वत्] वृष्णा-
वाला, प्यासा, 'समरतएहालू' (पउम ८, ८७,
८, ४७)।

तण्हाइअ वि [तण्णित] सुषातुए अति प्यासा
(वर्नवि १४१)।

तत देखो तय = तत (ठा ४, ४)।

तत्त न [तत्त्व] सत्य स्वरूप, तथ्य, परमार्थ
(उप ७२८ टी, पुष्प ३२०)। ओ अ
[वत्] वस्तुत (उप ६८६)। ण्णु वि
[ज] तत्त्व का जानकार (पचा १)।

तत्त पु [तत्त] १ तीसरी नरक-भूमि का एक
नरक-स्थान (देवेन्द्र ८)। २ प्रथम नरक-
भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ४)।

तत्त वि [तत्त] गरम किया हुआ (सम १२५,
विपा १, ६, दे १, १०५)। जला की
[जला] नदी-विशेष (ठा २, ३)।

तत्त अ [तत्त] वहाँ। भव, होत वि
[भवत्] पूज्य ऐसे आप (पि २६३,
अमि ५६)।

तत्तुसुत्त न [तत्त्वार्थसुत्त] एक प्रसिद्ध जैन
दर्शन-ग्रन्थ (अजक ७७)।

तत्तडिअ न [दे] रंगा हुआ कपडा (गच्छ
२, ४६)।

तत्ति की [तुत्ति] तुम्हें, सतोष (कुमा, कर
२६)। ल वि [मत्] तुम्हें-मुक्त,
वृत्त, सतुष्ट (राज)।

तत्ति की [दे] १ आदेश, हुकुम (दे ५, २०,
सय)। २ तत्परता (दे २०)। ३ चिन्ता,
विचार (गा २, ५१, २७३ म, सुपा २३७,
२८०)। ४ वार्ता, बात (गा २, वज्जा २)।
५ कार्य, प्रयोजन (परह १, २, वव १)।

तत्ति वि [तावत्] उतना (प्रासू १५६)।

तत्तिल वि [दे] तत्पर (षड्, दे ५, ३,
तत्तिल) गा ५५७, प्रासू ५६)।

तत्तु (अप) देखो तत्थ = तव (हे ४, ४०४,
कुमा)।

तत्तुडिअ न [दे] सुरत, समोग (दे ५, ६)।

तत्तुरिअ वि [दे] रचित (षड्)।

तत्तो देखो तओ (कुमा, जी २६)। मुह
वि [मुख] जिसका मुँह उस तरफ हो वह
(सुर २, २३४)।

तत्तोहुत्त न [दे] तदभिमुख, उसके सामने
(गडड)।

तत्थ अ [तत्त] वहाँ, उसमें (हे २, १६१)।

भव वि [भवत्] पूज्य ऐसे आप (पि
२६३)। य वि [त्य] वहाँ का रहनेवाला
(उप ५६७ टी)।

तत्थ वि [तत्त] भीत, डरा हुआ (हे २, १६१,
कुमा)।

तत्थ देखो तत्थ = तथ्य (वर्नस ३०४, एदि
५३)।

तत्थरि पुं [तत्तरि] नय-विशेष, 'तत्थरिनएण
ठविआ सोहव मज्ज बुद्धे' (अज्जु ४)।

तदा देखो तथा = तवा (गा १६६)।

तदीय वि [त्वदीय] तुम्हारा (महा)।

तदो देखो तओ (हे २, १६०)।

तद्दीअचय न [दे] तुम्हें, नाच (दे ५, ८)।

तद्दिअस न [दे] प्रतिदिन, अनुदिन,
तद्दिअसिअ हररोज (दे ५, ८, गडड,
तद्दिअह पात्र)।

तद्दोसि देखो त-दोसि = त्वदोषिन्।

तद्धिय पु [तद्धित] १ व्याकरण-प्रसिद्ध
प्रथम-विशेष (परह २, २, विसे १००३)।

२ तद्धित प्रथम की प्राप्ति का कारण-भूत
अर्थ (अणु)।

तथा देखो तहा (ठा ३, १, ७)।

तन्नय देखो तण्णय (सुर १४, १७४)।

तन्हा देखो तण्हा (सुर १, २०३, कुमा)।

तप देखो तव = तपस् (चंड)।

तप्प सक [तप्] १ तप करना। २ अक,
गरम होना। तप्पइ, तप्पति (पिंग, प्रासू
५३)।

तप्प सक [तप्थ्य] वृत्त करना। वहु
तप्पमाण (सुर १६, १६)। हेहू 'न इमो
जीवो सको तप्पेअ कामभोगेहि' (आठ ५०)।

हू तप्पेयज्व (सुपा २३२)।

तप्प न [तत्प] शय्या, बिछौना (पात्र)।

अ वि [ग] शय्या पर जानेवाला, सोने-
वाला (परह १, २)।

तप्प पुन [तप्] डोगी, छोटी नौका (परह
१, १, विसे ७०६)।

तप्प पुंन [तप्] नदी में दूर से बहकर आता
हुआ काष्ठ समूह (एदि ८८ टी)।

तप्पविअअ वि [तत्पाक्षिक] उस पक्ष का
(शा १२)।

तप्पज्ज न [तात्पर्य] तात्पर्य, मतलब (राज)।

तप्पण न [तप्पण] १ सक्तु, सतुआ, सत्तु (परह
२, ५)। २ स्त्रीन वृत्ति-करण, प्रीएण (सुपा
११३)। ३ स्निग्ध वस्तु से शरीर की मालिश
(एया १, १३)।

तप्पणग न [दे] जैन साधु का पात्र-विशेष,
तरपणी (कुलक १०)।

तप्पणाडुआलिआ की [दे] सक्तुमिश्रित
भोजन (दश वै० चू०, वसुदेवहिंडी, धम्मि-
लहिंडी)।

तप्पभिड अ [तत्प्रभृति] तबसे, तबसे लेकर
(कप्प, एया १, १)।

तप्पमाण देखो तप्प = तपय्।

तप्पर वि [तत्पर] आसक्त (दे ५, २०)।

तप्पुरिस पुं [तत्पुरुष] व्याकरण-प्रसिद्ध
समास-विशेष (अणु)।

तप्पेयज्व देखो तप्प = तपय्।

तन्मत्ति वि [तद्भक्तिक] उसका सेवक
(अग ५, ७)।

तेज देखो तेअय (पव २३१) ।

तेहुअ न [दे] बुझ-विशेष, टीवरु का पेठ (दे ५, १७) ।

तेहु } पु [तिन्दुक] १ बुझ-विशेष, तेहु
तेहुअ } का पेठ (परण १, ठा ८, पञ्चम
तेहुग } ४२, ७) । २ गेंद, कन्दुक (पञ्चम
१५, १३) ।

तेहुसय पु [दे] कन्दुक, गेंद (गाथा १, ८) ।
तेवरु पु [दे] सुद्र कीट-विशेष, श्रीन्द्रिय जन्तु
की एक जाति (जीव १) ।

तेगिच्छ देखो तेइच्छ (सुर १२, २११) ।

तेगिच्छग वि [चिकित्सक] १ चिकित्सा
करनेवाला । २ पु वैद्य, हकीम (उप ५६४) ।

तेगिच्छा देखो तेइच्छा (सुर १२, २११) ।

तेगिच्छायण देखो तिगिच्छायण (राज) ।

तेगिच्छि देखो तिगिच्छि (राज) ।

तेगिच्छिय वि [चिकित्सक] १ चिकित्सा
करनेवाला । २ पु. वैद्य, हकीम । ३ न.

चिकित्सा-कर्म, प्रतीकार-करण । ४ साला स्त्री
[शाला] दवाखाना, चिकित्सालय (गाथा
१, १३—पत्र १७६) ।

तेचत्तारीस देखो ते-आलीस (प्राक् ३१) ।

तेज देखो तेज = तेज्य । तेजई, (प्राक् ७५) ।

तेज पु [तेज] देश-विशेष (सम्मत् २१६) ।

तेजसि देखो तेअसि (पि ७५) ।

तेजपाल पु [तेजपाल] गुजरात के राजा
वीरधवल का एक यशस्वी मंत्री (ती २) ।

तेजलपुर न [तेजलपुर] गिरनार पर्वत के
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हुआ एक
नगर (ती २) ।

तेजस्सि देखो तेअसि (वव १) ।

तेज्ज (अप) देखो चय = स्यञ् । तेज्ज (पिग) ।
सङ्ग तेज्जिअ (पिग) ।

तेज्जिअ (अप) वि [त्यक्त] छोटा हुआ
(पिग) ।

तेड सक [दे] बुलाना । तेडति (सम्मत्
१६१) ।

तेहु पु [दे] १ शलभ, अन्न-नाशक कीट,
टिड्डी । २ पिशाच, राक्षस (दे ५, २३) ।

तेण अ [तेन] १ लक्षण-सूचक अर्थय, 'अम-
रुसं तेण कमलयण' (हे २, १८३, कुमा) ।
२ उस तरफ (भग) ।

तेण } पु [स्तेन] चोर, तत्कर (श्रीघ
तेणग } ११, कस, गच्छ ३, श्रीघ ४०२) ।
तेणय } °पयोग पु [°प्रयोग] १ चोर की

चोरी करने के लिए प्रेरणा करना । २ चोरी
के साधनों का दान या विक्रय (धर्म २) ।

तेणिअ } न [स्तेन्य] चोरी, अदत्त वस्तु
तेणिकक } का ग्रहण (आ १४, श्रीघ ५६६,
परह १, ३) ।

तेणिस वि [तेनिस] तिनिसबुझ-सबन्धी, बेंत
का (भग ७, ६) ।

तेणां स्त्री [स्तेना] चोर स्त्री (सम्मत् १६१) ।

तेण्ण न [स्तेन्य] चोरी, पर द्रव्य का अपहरण
(निच्च १) ।

तेण्हाइअ वि [वृष्णित] वृष्णा-युक्त, प्यासा
(से १३, ३६) ।

तेतलि पु [तेतलिन्] १ धरणेन्द्र के गन्धर्व-
सेना का नायक (इक) । २ देखो तेअलि
(गाथा १, १४—पत्र १६०) ।

तेतिल देखो तीइल (ज ७) ।

तेत्तिअ वि [तावत्] उतना (प्राप्र, गउड,
गा ७१, कुमा) ।

तेत्ति (श्री) देखो तेत्तिअ (प्राक् ६५) ।

तेत्तिर देखो तित्तिर (जीव १) ।

तेत्तिल वि [तावत्] उतना (हे २, १५७,
कुमा) ।

तेत्तिल न [तेत्तिल] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण-
विशेष (सूअनि ११) ।

तेत्तुल } (अप) ऊपर देखो (हे ४, ४०७,
तेत्तुल } कुमा, हे ४, ४३५ टि) ।

तेत्थु (अप) देखो तत्थ = तत्त (हे ४, ४०४,
कुमा) ।

तेद्दह देखो तेत्तिल (हे २, १५७, प्राप्र, पङ्,
कुमा) ।

तेन्न देखो तेण्ण (कस) ।

तेम (अप) देखो तह = तथा (पिग) ।

तेमासिअ वि [त्रैमासिक] १ तीन महीने में
होनेवाला (भग) । २ तीन मास-सबन्धी (सुर
६, २११, १४, २२८) ।

तेम्ब देखो तेम (हे ४, ४१८) ।

तेर वि [त्रयोदश] तेरहवाँ (कम्म ६, १६) ।

तेर (अप) वि [त्वदीय] तेरा, तुम्हाय (प्राक्
१२०) ।

तेर } त्रि व [त्रयोदशन्] तेरह, दस
तेरस } श्रीर तीन (आ ४४, ई २१, कम्म
२, २६, ३३) ।

तेरच्छ देखो तिरिच्छ = तिर्यच् (प्राक् १६) ।

तेरस देखो तेरसम (कम्म ६, १६, पव ४६) ।

तेरसम वि [त्रयोदश] तेरहवाँ (सम २५,
गाथा १, १—पत्र ७२) ।

तेरसया स्त्री [दे] जैन मुनिश्री की एक शाखा
(कप्प) ।

तेरसी स्त्री [त्रयोदशी] १ तेरहवाँ । २ तिरि-
विशेष, तेरस (सम २६, सुर ३, १०५) ।

तेरसुत्तरसय वि [त्रयोदशोत्तरशततम]
एक सौ तेरहवाँ, ११३ वाँ (पञ्चम ११३,
७२) ।

तेरह देखो तेरस (हे १, १३५, प्राप्र) ।

तेरासि पु [त्रैराशिक] नमुसक (पिड ५७३) ।

तेरासिअ वि [त्रैराशिक] १ मत विशेष का
अनुयायी, त्रैराशिक मत—जीव, अजीव और
नोजीव इन तीन राशियों को मानने वाला
(श्रीप, ठा ७) । २ न मत विशेष (सम
४०, विसे २४५१, ठा ७) ।

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ = तिर्यच् (पव ३८) ।

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ = तिरिच्छ, 'दिक्
व मणुस्स वा तेरिच्छं वा सरागहिअणए'
(आप २१) ।

तेरिच्छ न [तिर्यक्त्व] तिर्यचपन, पशु-
पक्षिपन (उप १०३१ टी) ।

तेरिच्छिअ वि [तेरिच्छिअ] तिर्यक्-सबन्धी
(श्रीघ २६६, भग) ।

तेल न [तेल] १ गौत्र-विशेष, जो माएइय
गौत्र की एक शाखा है (ठा ७) । २ तिल
का विकार, तेल (ससि १७) ।

तेलग पु व [तेलङ्ग] १ देश-विशेष । २
पुष्पी देश-विशेष का निवासी मनुष्य, तैलगी
(पिग) ।

तेलाडी स्त्री [तेलाटी] कीट-विशेष, गधोली
(दे ७, ८४) ।

तेलुक } न [त्रैलोक] तीन जगत्—स्वर्ग,
तेलोज } मर्त्य श्रीर पानाल लोक (प्रासू ६७,
तेलोक } प्राप्र, गाथा १, ४, पञ्चम ८ ७६,
हे १, १४८, २, ६७, पङ्, ससि १७) ।

हे १, १४८, २, ६७, पङ्, ससि १७) ।

दृसि वि [दृशिन] सर्वज्ञ, सर्वदर्शी

तरंगि वि [तरङ्गिन्] तरंगयुक्त (गडड, कप्पु) ।

तरंगिअ वि [तरङ्गित] तरंग युक्त (गडड, से न, ११; सुपा १५७) ।

तरंगिणी स्त्री [तरङ्गिणी] नदी, सरिता (प्रासू ६६, गडड, सुपा ५३८) ।

तरंगिणीनाह पु [तरङ्गिणीनाथ] सपुद्र, सागर (वज्जा १५६) ।

तरंड } पुन [तरण्ड, °क] डोगी, नौका
तरडय } (सुपा २७२, ५००, सुर ८, १०६, पुष्क १०५) ।

तरा वि [तर, °रु] तैरनेवाला, तेराक (ठा ४, ४) ।

तरन्छ पुत्री [तरक्ष] श्रापद जन्तु-विशेष, व्याघ्र की एक जाति (परह १, १, णाया १, १, स २५७) । स्त्री °च्छी (वि १२३) । °मल्ल पुत्री [°मल्ल] श्रापद जन्तु-विशेष (पउम ४२, १२) ।

तरट्ट वि [दे] प्रगल्भ, घृष्ट, समर्थ, चतुर, हानिरजवाव 'तरट्टो' (प्राक ३८) ।

तरट्टा } स्त्री [दे] प्रगल्भ स्त्री, प्रीढा नायिका,
तरट्टा } होशियार स्त्री, 'भाणोण ट्टुवि चिरं तरणी तरट्टी' (कप्पु, काप्र ५६६), 'श्रुट्टेव आगयाओ तरणुतरट्टो एयाओ' (सुपा ४२) ।

तरण न [तरण] १ तैरना (श्रा १४, स ३५६, सुपा २६२) । २ जहाज, नौका (विसे १०२७) ।

तरणि पु [तरणि] १ सूर्य, रवि (कुमा) । २ जहाज, नौका । ३ घृतकुमारी का पेड, शोकुंभार का पेड । ४ शर्क वृक्ष, शर्कवन वृक्ष (हे १, ३१) ।

तरतम वि [तरतम] न्यूनाधिक, 'तरतम-जोगजुतेहि' (कप्पु) ।

तरमाण देखी तर = त् ।

तरल वि [तरल] चंचल, चपल (गडड, पात्र, कप्पु, प्रासू ६६, सुपा २०४, सुर २, ८६) ।

तरल सक [तरलय्] चंचल करना, चलित करना । तरलेह (गडड) । वक्र, तरलत (सुपा ४७०) ।

तरलण न [तरलण] तरल करना, हिलाना, 'करणाडीण कुणता कुलतरलय्' (कप्पु) ।

तरलायिअ वि [तरलित] चंचल किया हुआ, चलायमान किया हुआ (गडड, भवि) ।

तरलि वि [तरलिन्] हिलानेवाला (कप्पु) ।

तरलिअ वि [तरलित] चंचल किया हुआ (गा ७८, उप पु ३३, सार्ध ११५) ।

तरवट्ट पु [दे] वृक्ष-विशेष, चकवड, पमाड, पवार (दे ५, ५, पात्र) ।

तरस न [दे] मास (दे ५, ४) ।

तरसा अ [तरसा] शोभ, जल्दी (सुपा ५८२) ।

तरा स्त्री [त्वरा] जल्दी, शीघ्रता (पात्र) ।

तरिअन्व देखी तर = त् ।

तरिअन्व न [दे] उडप, एक तरह की छोटी नौका (दे ५, ७) ।

तरिउ वि [तरीउ] तैरनेवाला (विसे १०२७) । तरिउ देखी तर = त् ।

तरिया स्त्री [दे] दूध आदि का सार, मलाई (प्रभा ३३) ।

तरिहि अ [तहिं] तो, तब (सुर १, १३२, ११, ७१) ।

तरी स्त्री [तरी] नौका, डोगी (सुवा १११, दे ६, ११०, प्रासू १४६) ।

तरु पु [तरु] वृक्ष, पेड, गाछ (जी १४, प्रासू २६) ।

तरुण वि [तरुण] जवान, मध्य वयवाला (पउम ५, १६८) ।

तरुणग } वि [तरुणरु] बालक, किशोर
तरुणय } (सूत्र १, ३, ४) । २ नवीन, नया (भग १५) । स्त्री °णिगा, °णिया (श्राचा २, १) ।

तरुणरहस पुन [दे] रोग, बीमारी (श्लो १३६) ।

तरुणिम पुस्त्री [तरुणिमन्] यौवन, जवानी (कप्पु) ।

तरुणी स्त्री [तरुणी] युवति स्त्री, जवान स्त्री (गडड, स्वप्न ८२, महा) ।

तल सक [तल्] तलना, भुजना, तेल आदि में भुजना । तलेज्जा (पि ४६०) । वक्र, तलेंत (विपा १, ३) । हेक तलिज्जित (स २५८) ।

तल न [दे] १ शय्या, बिछौना (दे ५, १६, पड्) । २ पु प्रापेश, गाँव का मुखिया (दे ५, १६) ।

तल पु [तल] १ वृक्ष विशेष, ताड का पेड (शाया १, १ टी—पत्र ४३, पउम ५३,

७६) । २ न स्वल्प, 'घरणिअतलवि' (कप्पु), 'कासवितलमि' (कुमा) । ३ हथेली (जं १) । ४ तला, भूमिका, 'सत्तले पासाए' (सुर २, ८१) । ५ भ्रवोभाग, नीचे (शाया १, १) । ६ हाथ, हस्त (कप्पु, परह २, ५) । ७ मध्य खण्ड (ठा ८) । ८ तलवा, पानी के नीचे का भाग या सतह (परह १, ३) । °ताल पुन [°ताल] १ हस्त-ताल, ताली । २ वाद्य विशेष (कप्पु) । °पहार पुं [°पहार] तमाचा, चपेटा (दे) । °भंगय न [°भङ्ग क] हाथ का आभूषण-विशेष (श्रीप) । °चट्ट न [°पट्ट] बिछौने की चट्ट (वज्जा १०४) । °चट्ट न [°पत्र] ताड वृक्ष का पत्ता (वज्जा १०४) ।

तल पुन [तल] १ वाद्य-विशेष (राय ४६) । २ हथेली, 'अयमाउसो करतले' (सूत्र २, १, १६) । ताल वृक्ष की पत्ती (सूत्र १, ५, १२) । °वर पु [°वर] राजा ने प्रसन्न होकर जिसको रत्न जडित सोने का पट्टा दिया हो वह (अणु २२) ।

तलअट सक [अट्] भ्रमण करना, घूमना, फिरना । तलअट्ट (हे ४, १६१) ।

तलआगत्ति पु [दे] कूप, इनारा (दे ५, ८) ।

तलओडा स्त्री [दे] वनस्पति-विशेष (परण १) ।

तलण न [तलण] तलना, भजन (परह १, १) ।

तलप्प अक [तप्] तपना, गरम होना । तलप्पइ (पिण) ।

तलप्पल पु [दे] शालि, ब्रीहि, धान (दे ५, ७) ।

तलवत्त पु [दे] १ कान का आभूषण-विशेष (दे ५, २१, पात्र) । २ वराग, उत्तमाग (दे ५, २१) ।

तलवर पु [दे तलवर] नगर-रक्षक, कोतवाल (शाया १, १, सुपा ३, ७३, श्लोप, महा, ठा ६, कप्पु, राय, अणु, उवा) ।

तलविट } न [तालवृन्त] व्यजन, पंखा (हे
तलवेट } १, ६७, पात्र) ।

तलसारिअ वि [दे] १ गालित । २ मुग्ध, मूर्ख (दे ५, ६) ।

°पुत्त [°पुत्र] एक प्रक प्रसिद्ध जैन प्राचार्य (प्राचम) ।	°त्ति अ [इति] उपालम्भ-सूचक अव्यय (प्राक् ७८) ।	°थरु देखो थरु (पि ३२७) ।
तोसलिय पुं [तोसलिक] तोसलि-ग्राम का अमीश क्षत्रिय (प्राचम) ।	°त्ति देखो इअ = इति (कम्प, स्वप्न १०, सण) ।	°थल देखो थल (काप्र ८७) ।
तोसविअ } वि [तोषित] खुश किया हुआ, तोसिअ } सतोषित (हे ३, १५०, पचम ७७, ८८) ।	°त्थ देखो एत्थ (गा १३२) ।	°थली देखो थली (पि ३८७) ।
तोहार (अप) देखो तुहार (पिंग, पि ४३४) ।	°त्थ वि [°स्थ] स्थित, रहा हुआ (प्राचा) ।	°थव देखो थव = स्तु । वक्क °थवंत (नाट) ।
°त्त वि [°त्र] त्राण-कर्ता, रासक, 'सकलत्तं सतुट्ठो सकल तो सो नरो होइ' (सुपा ३६६) ।	°त्थ देखो अत्थ (वाप्र १५) ।	°थवअ देखो थवय (से १, ४०, नाट) ।
°त्तण देखो तण (से १, ६१) ।	°त्थअ देखो थय = स्तुत (से १, १) ।	°थ्याण देखो थाण (नाट) ।
	°त्थउड देखो थउड (गउड) ।	°थ्याल देखो थाल (कुमा) ।
	°त्थव देखो थव (चार २०) ।	°थियअ देखो थिय (गा ४२१) ।
	°त्थभ देखो थभ (कुमा) ।	°थिर देखो थिर (कुमा) ।
	°त्थभण देखो थंभण (वा १०) ।	°थोअ देखो थोअ (नाट—वेणी २४) ।

॥ इअ सिरिपाइअसहमहणवम्मि तयाराइसहसकलणो
तेवीसइमो तरगो समत्तो ॥

थ

थं पु [थ] दन्त-स्थानीय व्यञ्जन विशेष (प्राप, प्रामा) ।
थ अ १-२ वाक्यालंकार और पाद-पूति मे प्रयुक्त किया जाता अव्यय, 'कि थ तय पम्हुट्ट ज थ तथा भो जयंत पवरम्मि' (एगाया १, १—पत्र १४८, पचा ११) ।
°थ देखो एत्थ (गा १३१, १३२, सण) ।
थइअ वि [स्थगित] आच्छादित, ढका हुआ (से ५, ४३, गा ५७०) ।
थइअ } स्त्री [स्थगिता] पानदानी, पान
थइआ } रखने का पात्र, पानदान (महा) । इत्त
पुं [°वत्] ताम्बूल-पात्र-वाहक नौकर (कुप्र ७१) । धर पु [°धर] ताम्बूल-पात्र का वाहक नौकर (सुपा १०७) । °वाहक पु [°वाहक] पानदानी का वाहक नौकर (सुपा १०७) । देखो थगिय° ।
थइआ स्त्री [दे] यैली, यैली, कोयली या बसनी—कमर मे बांधने की रूपयो की यैली 'संबलयइभासणाहो', 'दसिया सबलत्थई (?) इ या' (कुप्र १२, ८०) ।
थइउ देखो थय = स्पगय् ।

थउड न [स्थपुट] १ विपम और उन्नत प्रदेश (दे २, ७८) । २ वि नीचा-ऊँचा (गउड) ।
थउडिअ वि [स्थपुटित] १ विपम और उन्नत प्रदेशवाला । २ नीचा-ऊँचा प्रदेशवाला (गउड) ।
थउडु न [दे] भल्लातक, वृक्ष-विशेष, भिलावा (दे ५, २६) ।
थग सक [उद् + नामय्] ऊँचा करना, उन्नत करना । थगइ (प्राक् ३५) ।
थडिल न [स्थण्डिल] १ शुद्ध भूमि, जन्तु-रहित प्रदेश (कस, निरू ४) । २ श्लेष, गुस्ता (सूत्र १, ६) ।
थडिल पुं [स्थण्डिल] श्लेष, गुस्ता (सूत्र १, ६, १३) ।
थडिल न [स्थण्डिल] शुद्ध भूमि (सुपा ५५८, प्राचा) ।
थडिल न [दे] मण्डल, वृत्त प्रदेश (दे ५, २५) ।
थत देखो था ।

थं वि [दे] विपम, असम (दे ५, २४) ।
थव पु [स्तम्भ] लुण आदि का गुच्छ (दे ८, ४६, शोध ७७१, कुप्र २२३) ।
थभ अक [स्तम्भ] १ रुकना, स्तम्भ होना, स्थिर होना, निरचल होना । २ सक क्रिया-निरोध करना, अटकाना, रोकना, निरचल करना । थभइ (भवि) । कर्म थभिजइ (हे २, ६) । सक थभिउ (कुप्र ३८५) ।
थभ पु [स्तम्भ] वेरा, 'थभतित्यत्यंमत्य एव रोसम्पसरककुसिओ नाह सगामसीहो' (हम्मीर २२) । °तित्य न [°तीर्थ] एक जैन तीर्थ (हम्मीर २२) ।
थभ पु [स्तम्भ] १ स्तम्भ, यम्मा, लम्मा (हे २, ६, कुमा, प्राक् ३३) । २ अभिमान, गर्व, अहकार (सूत्र १, १३, उत ११) । °विजा स्त्री [°विद्या] स्तम्भ—वेहोश या निरवेष्ट करने की विद्या (सुपा ४६३) ।
थंभण न [स्तम्भन] १ स्तम्भ-करण, यर्मान (विसे ३००७, सुपा ५६६) । २ स्तम्भ करने का मन्त्र (सुपा ५६६) । ३

१, जी २) । २ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने-आने की शक्तिवाला प्राणी (निबू १२) ।
 °काइय पु [°कायिक] जंगम प्राणी, द्वीन्द्रियादि जीव (परह १, १) । °काय पु [°काय] १ अस समूह (ठा २, १) । २ जगम प्राणी (आचा) । °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, जिसके प्रभाव से जीव त्रसकाय में उत्पन्न होता है (कम्म १, सम ६७) । °रेणु पु [°रेणु] परिमाण-विशेष, वत्स हजार सात सौ अठसठ पर-माणुओं का एक परिमाण (अणु, पव २५४) । °वाइया जी [°पादिका] शीन्द्रिय जन्तु-विशेष (जीव) ।

तसण न [त्रसन] १ स्पन्दन, चलन, हिलन (राज) । २ पलायन (सूत्र १, ७) ।

तसनाडी जी [त्रसनाडी] त्रस जीवों के रहने का प्रदेश, जो ऊपर-नीचे मिलाकर चौदह रज्जू परिमित है (पव १४३) ।

तसर देखो टसर (कप्प) ।

तसिअ वि [दे] शुष्क, सूखा (दे ५, २) ।

तसिअ वि [दुषित] तृषालुर, पिपासित, प्यासा हुआ (परण ८४) ।

तसिअ वि [त्रस] भीत, डरा हुआ (जीव ३, महा) ।

तसियव्व देखो तस = तस ।

तसेयर वि [त्रसेतर] एकेन्द्रिय जीव, स्थावर प्राणी (सुपा १६८) ।

तह अ [तथा] १ उसी तरह (कुमा, प्रास १६, स्वप्न १०) । २ और, तथा (हे १, ६७) । ३ पाद-पूति में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (निबू १) । °कार पु [°कार] 'तथा' शब्द उच्चारण (उत्त २६) । °णान वि [°ज्ञान] प्ररन के उत्तर को जाननेवाला (ठा ६) । २ न सत्य ज्ञान (ठा १०) । °त्ति अ [द्विति] स्वीकार-प्रोतक अव्यय—वैसा ही (जैसा आप फरमाते हैं) (णाय १, १) । °य अ [°च] १ उक्त अर्थ की दृढ़ता-सूचक अव्यय । २ समुच्चय-सूचक अव्यय (पचा २) । °वि अ [°पि] तो भी (गडड) । °विह वि [°विध] उम प्रकार का (सुपा ४५६) । देखो तहा ।

तह वि [तथ्य] तथ्य, सत्य, सच्चा (सूत्र १, १३) ।

तह पु [तथ] आज्ञाकारक, दास, नौकर (ठा ४, २—पत्र २१३) ।

तह } न [तथ्य] १ स्वभाव, स्वरूप
 तहीय } (सूत्रनि १२२) । २ सत्य वचन (सूत्र १, १४, २१) ।

तह देखो तह = तथा (श्रीप) ।

तहरी जी [दे] पङ्कवाली सुरा (दे ५, २) ।

तहलिआ जी [दे] गो-वाट, गौश्री का वाडा, गोशाला (दे ५, ८) ।

तहा देखो तह = तथा (कुमा, गडड, आचा, सुर ३ २७) । °गय पु [°गत] १ मुक्त आत्मा । २ सर्वज्ञ (आचा) । °भूय वि [°भूत] उम प्रकार का (पउम २२, ६५) । °रुव वि [°रूप] उस प्रकार का (भाग १५) । °वि वि [°वित्] १ निपुण, चतुर २ पु सर्वज्ञ (सूत्र १, ४, १) । °हि अ [°हि] वह इस प्रकार (उप ६८६ टी) ।

तहि देखो तह = तथा (गा ८७८, उत्त ६) ।

तहिं } अ [तत्र] वहाँ, उसमें (गा २०६,
 तहिं } प्राप्र, गा २३४, ऊर १०५) ।

तहिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक (णाय १, १२) ।

तहियं अ [तत्र] वहाँ, उसमें (विसे २७८) ।

तहेय } अ [तथैव] उसी तरह, उसी प्रकार
 तहेव } (कुमा, षड्) ।

ता अ [तद्] उमसे, उस कारण से (हे ४, २७८, गा ४६, ६७, उव) ।

ता देखो ताव = ताव (हे १, २७१, गा १४१, २०१) ।

ता अ [तदा] तब, उस समय (रभा, कुमा, सण) ।

ता अ [तहिं] तो, तब (रभा, कुमा) ।

ता जी [ता] लक्ष्मी (सुर १६, ४८) ।

तां स [तद्] वह । °गध पु [°गन्ध] १ उसका गन्ध । २ उसके गन्ध के समान गन्ध (परण १७) । °फास पु [°स्पर्श] १ उसका स्पर्श । २ वैसा स्पर्श (परण १७) । °रस पुं [°रस] १ वह स्पर्श । २ वैसा स्पर्श (परण १७) । °रुव न [°रूप] १ वह रूप । २ वैसा रूप (परण १७—पत्र ५२२) ।

ताअ देखो ताव = ताप (गा ७६७, ८१४, हका ५०) ।

ताअ पु [तात] १ तात, पिता, बाप (सुर १, १२३, उत्त १४) । २ पुत्र, वत्स (सूत्र १, ३, २) ।

ताअ सक [त्रै] रक्षण करना । कृ तायव्व (आ १२) ।

ताअप्प न [तादात्म्य] तद्रूपता, अमेद, अभिन्नता (प्राक २४) ।

ताइ वि [त्यागिन्] त्याग करनेवाला (गा २३०) ।

ताइ वि [तायिन्] रक्षक, परिपालक (उत्त ८) ।

ताइ वि [तापिन्] ताप-युक्त (सूत्र १, १५) ।

ताइ वि [त्रायिन्] रक्षक, रक्षण करनेवाला (उत्त २१, २२) ।

ताइ वि [तायिन्] उपकारी (सूत्र १, २, २, १७) ।

ताइ पुं [त्रायिन्] मुनि, साधु (दसनि २, ६) ।

ताइअ वि [त्रात] रक्षित (उव) ।

ताड (अप) देखो ताव = ताव (कुमा) ।

ताठा (वृषै) देखो दाढा (हे ४, ३२५) ।

ताड सक [ताडय्] १ ताडन करना, पीटना । २ प्रेरणा करना, आघात करना । ३ गुणाकार करना । ताडइ (हे ४, २७) । भवि. ताडइस्स (पि २४०) । वक. ताडित (काल) । क्वक. ताडिजमाण, ताडीअत, ताडीअमाण (सुपा २६, पि २४०, अमि १५१) हेक. ताडिड (कप्प) । कृ ताडिअ (उत्त १६) ।

ताड पु [ताल] ताड का पेड (स २५६) ।

ताडंक्क पु [ताडङ्क] कान का श्राभूषण-विशेष, कुण्डल (दे ६, ६३, कप्प, कुमा) ।

ताडण न [ताडन] १ ताडन, पीटना (उप ६८६ टी, गा ५४६) । २ प्रेरणा, आघात (से १२, ८३) ।

ताडविअ वि [ताडित] पिटवाया गया (सुपा २८८) ।

ताडिअ देखो ताड = ताडय् ।

ताडिअ वि [ताडित] १ जिसका ताडन किया गया हो वह, पीटा हुआ (पाम्) । २

थर पु [दे] वही की तर, वही के ऊपर की मलाई (दे ५, २४)।

थरत्थर } अक [दे] थरथरना, काँपना।
थरथर } थरथरई, थरथरई, थरथरई (सहि
थरहर } ६६, पि २०७, सुर ७, ६, गा
१६५)। वक्र. थरथरत, थरथर-
राथत, थरथराथमाण, थरथरत (शोध
४७०, पि ५५८, नाट—मालती ५५, पत्रम
३१, ४४)।

थरहरिअ वि [दे] कम्पित (दे ५, २७, भवि,
सुर १, ७, सुपा २१, जय १०)।

थरु पु [दे स्वरु] जङ्ग-मुष्टि, तलवार की
मूठ (दे ५, २४)।

थरुगिण पु [थरुगिन] १ देश-विशेष। २
पुत्री उस देश का निवासी। स्त्री° गिगिआ
(इक)।

थल न [स्थल] १ भूमि, जगह, सूखी जमीन
(कुमा, जप १८६ टी)। २ भास लेते समय
खुले हुए मुँह की फाँक, खुले हुए मुँह की
खाली जगह (वव ७)। इल वि [वत्]
स्थल-युक्त (गठई)। कुकुडियड न [कुकु-
ट्यपड] कवल प्रक्षेप के लिए खुरा हुआ युद्ध
(वव ७)। चार पु [चार] जमीन में
चलना (आचा)। नलिणी स्त्री [नलिनी]
जमीन में होनेवाला कमल का गाछ (कुमा)।
य वि [ज] जमीन में उत्पन्न होनेवाला
(पराण १, पत्रम १२, ३७)। यर वि
[चर] १ जमीन पर चलनेवाला। २ जमीन
पर चलनेवाला पचेन्द्रिय तिर्यंच प्राणी (जीव
३, जी २०, श्रौप)। स्त्री. शी (जीव ३)।

थलय पु [दे] मंडप, दृणादि-निर्मित गृह (दे
५, २५)।

थलहिगा } स्त्री [दे] मुक्त-स्मारक, शव को
थलहिया } गाढकर उस पर किया जाता एक
प्रकार का चबूतरा (स ७५६, ७५७)।

थली स्त्री [स्थली] जल शून्य भू-भाग (कुमा,
पात्र)। घोडय पु [घोटक] पशु-विशेष
(वव ७)।

थली स्त्री [स्थली] ऊँची जमीन (उत्त ३०,
१७, सुख ३०, १७)।

थलिया स्त्री [दे स्थालिका] थलिया, छोटा
पाल, भोजन करने का बरतन (पत्रम २०,
१६६)।

थय सक [स्तु] स्तुति करना। वक्र थयत
(नाट)।

थय देवो थय = स्तव (हे २, ४६, सुपा
४४६)।

थय पु [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४)।

थयइ पु [स्थपति] वर्षाक, बढई (दे २,
२२)।

थयइय वि [स्तवकित] स्तवकवाला, गुच्छ-
युक्त (गाया १, १ श्रौप)।

थयइल वि [दे] जाँव फैलाकर बैठा हुआ
(दे ५, २६)।

थयक पु [दे] थोक, समूह, जत्या, 'लब्धइ
कुलवहुसुरए थयकओ सयलसोमखाए' (वजा
६६)।

थयण देवो थयण (भाव २)।

थयणिया स्त्री [स्थापनिका] न्यास, जमा
रखी हुई वस्तु, 'कन्नगीभूमालियथयणियथव-
हारकूडसन्निज' (सुपा २७५)।

थयय पु [स्तवक] पूज आदि का गुच्छ (दे
२, १०३, पात्र)।

थयिआ स्त्री [दे] प्रसेविका, वीणा के अन्त
में लगाया जाता छोटा काष्ठ-विशेष (दे २,
२५)।

थयिय वि [स्थापित] न्यस्त, निहित (भवि)।

थयिय वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की गई हो
वह, श्रावित (सुपा ३४३)।

थयिर वि [स्थचिर] बृद्ध, बृद्धा (वर्मादि
१३४)।

थयी [दे] देवो थयिआ (दे २, २५)।

थस } वि [दे] विस्तीर्ण (दे ५, २५)।
थसल }

थह तु [दे] निलय, आश्रय, स्थान (दे ५,
२५)।

था देवो ठा। थाइ (भवि)। थवि थाहिइ
(पि ५२४)। वक्र थत (पत्रम १४, १३४,
भवि)। सक थाऊण (हे ४, १६)।

थाइ वि [स्थायिन्] रहनेवाला। 'णी स्त्री
[नी] वर्ष-वर्ष पर प्रसव करनेवाली घोड़ी
(राज)।

थागत न [दे] जहाज के भीतर घुसा हुआ
पानी (सिरि ४, २५)।

थाण देवो ठाण (हे ४, १६, विते १८५६,
उप पु ३३२)।

थाणय न [स्थानक] भालवाल, कियारी (दे
५, २७)।

थाणय न [दे] १ चौकी, पहरा, 'भयाणया
भ्रववि ति निविट्ठाइ थाणयाइ', 'तयो बहुवो-
लियाए रयणीए थाणयनिविट्ठा तुरियतुरिय
मागया सवरपुरिसा' (स ५३७, ५४६)। २
पु चौकीदार, चौकी करनेवाला भादमी,
पहरेदार, 'पहायसमए य विससरिणु थाण-
एणु' (स ५३७)।

थाणिज्ज वि [दे] गौरवित, सम्मानित (दे
४, ५)।

थाणीय वि [स्थानीय] स्थानापन्न (स ६६७)।

थाणु पु [स्थाणु] १ महादेव, शिव (हे २,
७, कुमा, पात्र)। २ ठूठा वृक्ष (गा २३२,
पात्र), 'दवदइइथाणुसरिस' (कुप्र १०२)।
३ खीला। ४ स्तम्भ (राज)।

थाणेसर न [स्थानेश्वर] समुद्र के किनारे पर
का एक शहर (उप ७२८ टी, स १४८)।

थाम वि [दे] विस्तीर्ण (दे ५, २५)।

थाम न [स्थामन्] १ बल, वीर्य, पराक्रम
(हे ४, २६७, ठा ३, १)। २ वि. वल-
युक्त (निवू ११)। ३ वि [वत्] बलवान
(उत्त २)।

थाम पुन [स्थामन्] १ बल। २ प्राण, 'था
(? था) मो वा परिहायइ ठुणणु (? ठुण-
णणु) प्पेहासु अ भमतो' (पिड ६६४)।

थाम न [दे स्थान] स्थान, जगह (संदि
४७, स ४६, ७४३), 'वेवालयभूमितते
फिल्लुसमाणा य थामथामन्नि' (सुर २,
१०५)।

थार पु [दे] घन, मेघ (दे ५, २७)।

थारुणय वि [थारुणि] देश विशेष में
उत्पन्न। स्त्री 'गिया (श्रौप)। देवो
थरुगिण।

थाल पुन [स्थाल] बड़ी थलिया, भोजन
करने का पात्र (दे ६, १२, अंत ५, उप पु
२५७)।

थालइ वि [स्थालकिन्] १ थालवाता। २
पु धानप्रत्य था एक मेघ (श्रौप)।

थाला स्त्री [दे] धारा (यद्)।

१२, ३४, स ६६६)। °सूलपाणि पु [°शूल-पाणि] १ महादेव, शिव । २ त्रिशूल का हाथ मे रखनेवाला सुभट (पउम ५६, ३५)। °सूलिया स्त्री [°शूलिका] छोटा त्रिशूल (सूत्र १, ५, १)। °हत्तर वि [°सप्तत] तिहत्तरवाँ, ७३ वाँ (पउम ७, २६)। °हा अ [°धा] तीन प्रकार से (पि ४५१, अणु)। °हुअण, °हुण, °हुवण न [°भुवन] १ तीन जगत्, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक (कुमा, सुर १, ८, प्रासू ४६, अचु १६)। २ पु राजा कुमारपाल के पिता का नाम (कुप्र १४४)। °हुअणपाल पु [°भुवन-पाल] राजा कुमारपाल का पिता (कुप्र १४४)। °हुअणालकार पु [°भुवनालकार] रावण के पट्टहस्ती का नाम (पउम ८१, १२२)। °हुणविहार पु [°भुवनविहार] पाटण (गुजरात) मे राजा कुमारपाल का बन-वाया हुआ एक जैन मन्दिर (कुप्र १४४)। देखो ते°।

°ति देखो इअ = इति (कुमा, कम्म २, १२, २३)।

तिअ (अप) अक [तिम्, रितम्] १ आद्र° होना । २ सक आद्र° करना । तिअइ (प्राक १२०)।

तिअ न [त्रिक] १ तीन का समुदाय (आ १, उप ७२८ टी)। २ वह जगह जहाँ तीन रास्ते मिलते हो (सुर १, ६३)। °संजअ पु [°संयत] एक राजपि (पउम ५, ५१)। देखो तिग।

तिअ वि [त्रिज] तीन से उत्पन्न होनेवाला (राज)।

तिअर पु [त्रिकर] स्वनाम-ख्यात एक जैनमुनि (राज)।

तिअग न [त्रिकग] तीन का समुदाय (विसे २६४३)।

तिअडा स्त्री [त्रिजटा] स्वनाम-ख्यात एक राजसी (से ११, ८७)।

तिअभगी स्त्री [त्रिभङ्गी] छन्द-विशेष (पिग)।

तिअय न [त्रितय] तीन का समूह (विसे १४३२)।

तिअलुक } न [त्रैलोक्य] तीन जगत्—
तिअलोक } स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक
(धर्मा ६०, लहुअ ६)।

तिअस पु [त्रिदश] देव, देवता (कुमा, सुर १, ६)। °गअ पु [°गज] ऐरावत या ऐरावण हाथी, इन्द्र का हाथी (से ६, ६१)। °नाह पु [°नाथ] इन्द्र (उप ६८६ टी, सुपा ४४)। °पहु पु [°प्रभु] इन्द्र, देव-नायक (सुपा ४७, १७६)। °रिसि पु [°ऋषि] नारद मुनि (कुप्र ३७३)। °लोग पु [°लोक] स्वर्ग (उप १०१६)। °विलया स्त्री [°वनिता] देवी, स्त्री देवता (सुपा २६७)। °सरि स्त्री [°सरित्] गंगा नदी (कुप्र)। °सेल पु [°शैल] मेरु पर्वत (सुपा ४८)। °लय पुन [°लय] स्वर्ग (कुप्र १६, उप ७२८ टी, सुर १, १७२)। °हिव पु [°धिप] इन्द्र (सुपा ३४)। °हिवइ पु [°धिपति] इन्द्र (सुपा ७६)।

तिअससूरि पु [त्रिदशसूरि] बृहस्पति (सम्मत् १२०)।

तिअसिंद पु [त्रिदशेन्द्र] इन्द्र, देव-पति (वज्जा १५४)।

तिअसेंद देखो तिअसिंद (वेइय ६१०)।

तिअसीस पु [त्रिदशेश] इन्द्र, देव-नायक (हे १, १०)।

तिआमा स्त्री [त्रियामा] रात्रि, रात (अचु ४६)।

तिइक्ख सक [तितिक्ष्] सहन करना। तिइक्खए (आचा)। वक्क तिइक्खमाण (आचा)।

तिइक्खा स्त्री [तितिक्षा] क्षमा, सहिष्णुता (आचा)।

तिइज्ज वि [तृतीय] तीसरा पि ४४६, तिइय } सक्षि २०)।

तिउक्खर न [त्रिपुष्कर] वाद्य-विशेष (अजि ३१)।

तिउट्ट सक [त्रोट्ट्] १ तोडना । २ परित्याग करना । तिउट्टिज्जा (सूत्र १, १, १, १)।

तिउट्ट अक [त्रुट्] १ हटना । २ भुक्त होना, 'सव्वदुक्खा तिउट्टइ' (सूत्र १, १५, ५)।

तिउट्ट वि [त्रुट्ट, त्रुटित] १ हटा हुआ । २ भ्रमरुत (आचा)।

तिउड पु [दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पात्र)।

तिउडग पुन [त्रिपुटक] धान्य विशेष (दसनि ६, ८, पव १५६)।

तिउडय न [दे] १ मालव देश मे प्रसिद्ध धान्य-विशेष (आ १८)। २ लौंग, लवण (आ पत्र ६६)।

तिउर न [त्रिपुर] एक विद्याधर-नगर (इक)।

तिउर पु [त्रिपुर] असुर-विशेष (त्रि ६४)। °णाह पु [°नाथ] वही (त्रि ८७)।

तिउरी स्त्री [त्रिपुरी] नगरी-विशेष, चेदि देश की राजधानी (कुमा)।

तिउल वि [दे] मन, वचन और काया को पीडा पहुँचानेवाला, दु ख का हेतु (उत्त २)।

तिऊड देखो तिकूड (से ८, ८३, ११, ६८)।

तिंगिआ स्त्री [दे] कमल-रज (दे ५, १२)।

तिंगिच्छ देखो तिगिच्छ (इक)।

तिंगिच्छायण न [चिक्विस्तायन] नक्षत्र-गोत्र-विशेष (इक)।

तिंगिच्छि स्त्री [दे] कमल-रज, पद्म का रज, पराग (दे ५, १२, गउड, हे २, १७४, ज ४)।

तिंत वि [तीमित] भीजा हुआ (स ३३२, हे ४, ४३१)।

तितिण } वि [दे] बडबड करनेवाला,
तितिणिय } बडबडानेवाला, वाञ्छित लाभ न होने पर खेद से मन मे जो आवे सो बोलने-वाला (वव १, ठा ६—पत्र ३७१, कस)।

तितिणी स्त्री [तिन्निणी] १ चिचा, इमली का पेड (अभि ७१)।

तितिणी स्त्री [दे] बडबडाना (वव ३)।

तिंदुइणी स्त्री [तिन्दुकिनी] वृक्ष-विशेष (कुप्र १०२)।

तिदुग } पु [तिन्दुक] १ वृक्ष-विशेष, तेंदू
तिंदुय } का पेड (पात्र, पउम २०, ३७, सम १५२, पएण १७)। २ न फल-विशेष (पएण १७)। ३ श्रावस्ती नगरी का एक उद्यान (विसे २३०७)।

तिदुग } पु [तिन्दुक] शीघ्रिय जन्तु की
तिंदुय } एक जाति (उत्त ३६, १३६, सुख ३६, १३६)।

शुक्क अक [थूत् + क] १ धूकना । २ सक तिरस्कार करना, धुतकारना, अनादर के साथ निकालना । शुक्केइ (वजा ४६) । संक. शुक्किऊण (सुपा ३४६) ।

शुक्क न [थूत्कृत] धूक, कफ, खखार (दे ४, ४१) ।

शुक्कार पु [थूरुकार] तिरस्कार (राय) ।

शुक्कार सक [थूरुकारय] तिरस्कार करना । कवक. शुक्कारिज्जमाण (पि ५६३) ।

शुक्किअ वि [दे] उन्नत, ऊँचा (दे ५, २८) ।

शुक्किअ वि [थूत्कृत] धूका हुआ (दे ५, २८, सुपा ३४६) ।

शुद्ध न [दे स्थुड] वृक्ष का स्क्व. 'चीरीउ करेऊण बद्धा ताय शुद्धेसु' (सुपा ५८४, ३६६) ।

शुद्धकिअय न [दे] रोष-युक्त वचन (पात्र) ।

शुद्धुकिअ न [दे] १ अल्प-कुपित मुँह का सकोच, थोडा गुस्सा होने से होता मुँह का सकोच । २ मौन, चुपकी (दे ५, ३१) ।

शुद्धुहीर न [दे] चामर (दे ५, २८) ।

शुण सक [स्तु] स्तुति करना, गुण-वर्णन करना । शुणइ (हे ४, २४१) । कर्म शुण्वइ, शुण्विइ (हे ४, २४१) । वक्र शुणंत (भवि) । कवक. शुण्वत, शुण्वमाण (सुपा ८८, सुर ४, ६६, स ७०१) । सङ्ग. थोऊण (काल) । हेऊ थोत्तु (मुष्पि १०८७५) । क. शुण्व, थोअव्व (भवि, चैत्य ३५, से ७१०) ।

शुणण न [स्तवन] गुण-कीर्तन, स्तुति (सुपा ३०) ।

शुणिर वि [स्तोत्] स्तुति करनेवाला (काल) ।

शुणण वि [दे] हस, अभिमानी (दे ५, २७) ।

शुत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तुति-पाठ (भवि) ।

शुत्थुक्कारिय वि [शुत्थुत्कारित] धुतकारा हुआ, तिरस्कृत, अपमानित (भवि) ।

शुत्थुकार पुं [शुत्थुत्कार] तिरस्कार (प्रयौ ८१) ।

शुत्थुण्णणय न [दे] शय्या, बिछौना (दे ५, २८) ।

शुत्थुम पु [दे] पट-कुटी, तबू, बज-गृह, कपड-कोट, लेमा (दे ५, २८) ।

शुद्ध वि [दे] परिवर्तित, बदला हुआ (दे ५, २७) ।

शुद्ध वि [स्थूल] मोटा (हे २, ६६, प्रामा) ।

शुद्ध वि [स्थूल] मोटा, तगडा । झी. °छी (पिड ४२६) ।

शुद्ध देखो शुण । शुद्ध (प्राङ्क ६७) ।

शुद्धवि [स्तावक] स्तुति करनेवाला (हे १, ७५) ।

शुद्धण न [स्तवन] स्तुति, स्तव (कुप्र ३५१) ।

शुद्धव } देखो शुण ।

शू अ निन्दा-सूचक अव्यय, 'थू निल्लज्जो लोओ' (हे २, २००, कुमा) ।

शूण पु [दे] अश्व, घोडा (दे ५, २६) ।

शूण देखो तेण = स्तेन (हे २, १४७) ।

शूणा झी [स्थूणा] खम्भा, खूँटी (षड्, परण १५) ।

शूणाण पु [स्थूणाक] सन्निवेश विशेष, ग्राम-विशेष (आवम) ।

शूथू अ [दे] घृणा-सूचक अव्यय (चड) ।

शूथू पु [स्तूप] धूहा, टीला, ढूह, स्मृति स्तम्भ (चित्ते ६६८, सुपा २०६, कुप्र १६५, आचा २, १, २) ।

शूथिया } झी [स्तूपिका] १ छोटा स्तूप
शूथियागा } (श्रीध ४३६, श्रीध) । २ छोटा शिखर (सम १३७) ।

शूरी झी [दे] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे ५, २८) ।

शूल देखो शुद्ध (पात्र, पठम १४, ११३, उवा) । °भइ पु [°भद्र] एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि (हे १, २५५, पडि) ।

शूलघोण पु [दे] सूकर, बराह (दे ५, २६) ।

शूव } देखो शूम (दे ७, ४०, सुर १, ५८) ।

शूह पुं [दे] १ प्रासाद का शिखर (दे ५, ३२, पात्र) । २ चालक पक्षी । ३ बल्मीक, दीमक (दे ५, ३२) ।

थेअ वि [स्थेय] १ रहने योग्य । २ जो रह सकता हो । ३ पु. फैसला करनेवाला, न्यायाधीश (हे ४, २६७) ।

थेग पुं [दे] कन्व-विशेष (आ २०, जी ६) ।

थेज्ज न [स्थैर्य] स्थिरता (चित्ते १४) ।

थेज्ज देखो थेअ (वव ३) ।

थेण पु [स्तेन] चोर, तस्कर (हे १, १४७) । थेणिल्लिअ वि [दे] १ हल, छीना हुआ । २ भीत, डरा हुआ (दे ५, ३२) ।

थेप देखो थिपप । थेप्पइ (पि २०७, सज्जि ३४) ।

थेर वि [स्वविर] १ वृद्ध, बूढा (हे १, १६६, २, ८६, मग ६, ३३) । २ पु जैन साधु (श्रीध १७, कप्प) । °कप्प पु [°कल्प] १ जैन मुनियो का आचार-विशेष, गन्ध मे रहने-वाले जैन मुनियो का अनुष्ठान । २ आचार-विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ (ठा ३, ४, श्रीध ६७०) । °कल्पिय पु [°कल्पिय] आचार विशेष का आशय करनेवाला, गन्ध मे रहने-वाला जैन मुनि (पव ७०) । °भूमि झी [°भूमि] स्वविर का पद (ठा ३, २) ।

°वलि वि [°वलि] १ जैन मुनियो का समूह । २ क्रम से जैन मुनि-गण के चरित्र का प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष (एदि, कप्प) । थेर पु [दे स्थविर] ब्रह्मा, विवाता (दे ५, २६, पात्र) । थेरासण न [दे स्थविरासन] पद्म, कमल (दे ५, २६) । थेरिअ न [स्थैर्य] स्थिरता (कुमा) । थेरिया } झी [स्थविरा] १ बूढा, बुढिया
थेरी } (पात्र, श्रीध २१ टी) । २ जैन साध्वी (कप्प) ।

थेरोसण न [दे स्थविरासन] अम्बुज, कमल, पद्म (षड्) ।

थेव पु [दे] विन्दु (दे ५, २६, पात्र, पड) ।

थेव देखो थोव (हे २, १२५, पात्र, सुर १, १८१) । °कालिय वि [°कालिय] अल्प काल तक रहनेवाला (सुपा ३७५) ।

थेवरिअ न [दे] जन्म-समय मे बनाया जाता चाद्य (दे ५, २६) ।

थोअ देखो थोव (हे २, १२५, ग ४६, गडड, सज्जि १) ।

थोअ पु [दे] १ रजक, घोवी । २ मूलक, मूला, कन्व-विशेष (दे ५, ३२) ।

थोअव्व } देखो शुण ।

थोऊण } देखो शुण । थोक देखो थोक्क (प्राङ्क ३८) ।

थोक्क } देखो थोव (दे २, १२५, जो १) । थोग }

तित्तिक्खा देखो तिङ्क्खा (सम ५७) ।
 तित्त वि [वृत्] वृत्, सतुट्ट, खुश (विसे
 २४०६, श्रौप, दे १, १६, सुपा १६३) ।
 तित्त वि [तित्त] १ तीता, कडुआ (एाया
 १६) । २ पु तीता रस (ठा १) ।
 तित्ति देखो तत्ति = दे (सिरि २७, संबोध ६) ।
 तित्ति लो [वृत्ति] वृत्ति, सतोष (उप ५६७
 टी, दे १, ११७, सुपा ३७५, प्रासू १४०) ।
 तित्ति [दे] तात्पर्य, सार (दे ५, ११, षड्) ।
 तित्तिअ वि [तावत्] उतना (हे २, १५६) ।
 तित्तिअ पु [तित्तिक्] १ म्लेच्छ देश-विशेष ।
 २ उस देश मे रहनेवाली म्लेच्छ जाति
 (पएह १, १) । देखो तिण्णअ ।
 तित्तिर पु [तित्तिरि] पक्षि-विशेष, तीतर
 तित्तिर } या तित्तिर (हे १, ६०, कुप्र ४२७) ।
 तित्तिरिअ वि [दे] स्नान से आद्रं (दे ५,
 १२) ।
 तित्तिल वि [तावत्] उतना (पड्) ।
 तित्तिल पु [दे] द्वारपाल, प्रतीहार (गा
 ५५६) ।
 तित्तुअ वि [दे] गुरु, भारी (दे ५, १२) ।
 तित्तुल (अप) देखो तित्तिल (हे ४, ४३५) ।
 तित्थ पु [त्रिस्थ] साधु, साध्वी, श्रावक और
 श्राविका का समुदाय, जैनसभ (विसे १०३५) ।
 तित्थ पु [त्र्यर्थ] ऊपर देखो (विसे १३०६) ।
 तित्थ न [तीर्थ] प्रथम गणधर (एदि
 १३० टी) ।
 तित्थ न [तीर्थ] १ ऊपर देखो (विसे
 १०३३, ठा १) । २ दर्शन, मत (सम्म ८,
 विसे १०४) । ३ यात्रा स्थान, पवित्र जगह
 (धर्म २, राय, अग्नि १२७) । ४ प्रवचन,
 शासन, जिन-देव प्रणीत द्वादशाङ्गी (धर्म
 ३) । ५ पुन अवतार, घाट, नदी वगैरह मे
 उतरने का रास्ता (विसे १०२६, विक्र ३२,
 प्रति ८२, प्रासू ६०) । कर, गार देखो
 थर (सम ६७, कप्प, पउम २०, ८, हे
 १, १७७) । जत्ता लो [यात्रा] तीर्थ-
 गमन (धर्म २) । पाह, नाह पु [नाथ]
 जिन-देव (स ७६१, उप पृ ३५०, सुपा
 ६५६, सार्धे ४३, स ३५) । थर वि [कर]
 १ तीर्थ का प्रवर्तक । २ पु जिन-देव, जिन भा-

वान (एाया १, ८, हे १, १७७, सं १०१) लो।
 री (एदि) । थरणाम न [करनामन्]
 कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव तीर्थकर
 होता है (ठा ६) । राय पु [राज] जिन
 देव (उप पृ ४००) । सिद्ध पु [सिद्ध]
 तीर्थ-प्रवृत्ति होने पर जो मुक्ति प्राप्त करे वह
 जीव (ठा १, १) । हिनायग पु [अधिना-
 यक] जिनदेव (उप ६८६ टी) । हिच पु
 [विप] सधनायक, जिन-देव (उप १४२
 टी) । हिचइ पु [विपति] जिनदेव,
 जिन भगवान् (पाअ) ।
 तित्थकर पु [तीर्थकर] देखो तित्थ-यर
 (चेइय ६५१) ।
 तित्थि वि [तीथिन्] १ दार्शनिक, दर्शन-
 शास्त्र का विद्वान् । २ किसी दर्शन का अनु-
 यायी (पु ३) ।
 तित्थिअ वि [तीर्थिक] ऊपर देखो (प्रवो
 ७४) ।
 तित्थीय वि [तीर्थीय] ऊपर देखो (विसे
 ३१६६) ।
 तित्थेसर पु [तीर्थेश्वर] जिन-देव, जिन
 भगवान् (सुपा ५१, ८६, २६०) ।
 तित्दस देखो तित्तस (नाट—विक्र २८) ।
 तित्दिव न [त्रिदिव] स्वर्ग, देवलोक (सुपा
 १४२, कुप्र ३२०) ।
 तिथ (अप) देखो तहा (हे ४, ४०१, कुमा) ।
 तिन्न देखो तिण्ण (सम १) ।
 तिन्न वि [दे] स्तोमित, आद्रं, गोला (एाया
 १, ६) ।
 तिपन्न देखो ते-वण्ण (पच ५, १८) ।
 तिप्प सक [तिप्] देना । तिप्पइ (पिंड
 २६७) ।
 तिप्प अक [वृप्] वृत्त होना । वक्क तिप्पत्त
 (पिंड ६४७) ।
 तिप्प सक [तर्पय्] वृत्त करना, हेक्क न
 इमा जीवो सक्को तिप्पेज कामभोगेहि (पच
 ५५) । क्क तिप्पियत्तव (पउम ११, ७३) ।
 तिप्प अक [तिप्] १ भरना, चूना । २
 अफसोस करना । ३ रोना । ४ सक, सुख-
 च्युत करना । तिप्पामि, तिप्पति (सुप्र २, १,
 २, २, ५५) । वक्क, तिप्पमाण (एाया १,

१—पत्र ४७) । प्रयो. वक्क तिप्पयंत (सम
 ५१) ।
 तिप्प पुन [त्रेप] अपान आदि घोने की
 क्रिया, शौच (गच्छ २, ३२) ।
 तिप्प वि [वृत्] सतुट्ट, खुश (हे १, १२८) ।
 तिप्पण न [तेपन] पीडन, हैरानी (सुप्र २,
 २, ५५) ।
 तिप्पणया लो [तेपनता] श्रु-विमोचन,
 रोदन (ठा ४, १, श्रौप) ।
 तिप्पाय न [त्रिपाद] तप-विशेष, नीवी
 (संबोध ५८) ।
 तिम (अप) देखो तहा (हे ४, ४०१, भवि,
 कम्म १) ।
 तिमि पु [तिमि] मत्स्य की एक जाति (पएह
 १, १) ।
 तिमिगिल पु [दे] मत्स्य, मछली, तिमि
 (मत्स्य) को निगलनेवाला मत्स्य (दे ५, १३) ।
 तिमिगिल पु [तिमिङ्गिल] मत्स्य की एक
 जाति (दे ५, १३, से ७, ८, पएह १, १) ।
 गिल पु [गिल] एक प्रकार का महान्
 मत्स्य, बड़ी भारी मछली (सुप्र २, ६) ।
 तिमिगिल पु [तिमिङ्गिल] मत्स्य की एक
 जाति (पउम २२, ८३) ।
 तिमिगिल देखो तिमिगिल = तिमिङ्गिल (उप
 ५१७) ।
 तिमिच्छय } पुं [दे] पथिक, मुसाफिर (दे
 तिमिच्छाह } ५, १३) ।
 तिमिण न [दे] गोला काष्ठ (दे ५, ११) ।
 तिमिर न [तिमिर] १ अन्धकार, अंधेरा
 (पडि, कप्प) । २ निकाचित कर्म (धर्म २) ।
 ३ अल्प ज्ञान । ४ अज्ञान (आहू ५) । ५ पु.
 वृक्ष-विशेष (स २०६) ।
 तिमिरिच्छ पु [दे] वृक्ष विशेष, करज का
 पेड़ (दे ५, १३) ।
 तिमिरिस पु [दे] वृक्ष-विशेष (पएण १—
 पत्र ३३) ।
 तिमिल लीन [तिमिल] वाद्य-विशेष (पउम
 ५७, २२) । लो. ला (राज) ।
 तिमिस पु [तिमिष] एक प्रकार का पौधा,
 पेठा, कुम्हडा (कप्पू) ।
 तिमिसा } ली [तिमिसा] वैताइय पर्वत
 तिमिरसा } की एक युवा (ठा २, ३, पएह
 १, १—पत्र १४) ।

[^०नायक] १ दण्ड-दाता, अपराधविचार-कर्ता । २ सेनापति, सेनानी, प्रतिनियत सैन्य का नायक (पण्ड १, ४, औप, कप्प, शाया १, १) । ^०णीइ वी [^०नीति] नीति-विशेष, अनुशासन (ठा ६) । ^०पह पुं [^०पथ] मार्ग-विशेष, सीधा मार्ग (सूत्र १, १३) । ^०पासि पु [^०पाश्चिन्, ^०पाशिन्] १ दण्ड दाता । २ कोतवाल (राज, आ २७) । ^०पुछणय न [प्रोच्छन्नक] दण्डाकार भाङ्ग (ज ५) । ^०भी वि [^०भी] दण्ड से डरने-वाला, दण्ड-भीरु (आचा) । ^०लत्तिय वि [^०लात] दण्ड लेनेवाला (वव १) । ^०वइ पु [^०पति] सेनानी, सेनापति (सुपा ३२३) । ^०वासिग, ^०वासिय पु [दाण्डपाशिक] कोतवाल (कुप्र १५५, स २६५, उप १०३१ टी) । ^०वीरिय पु [^०वीर्य] राजा भरत के वंश का एक राजा, जिसको ब्राह्मण-गृह में कैवलज्ञान उत्पन्न हुआ था (ठा ८) । ^०रास पुं [^०रास] एक प्रकार का नाच (कप्प) । ^०इय वि [यत] दण्ड की तरह लम्बा (कस, औप) । ^०यइय वि [^०यतिक] पैर को दण्ड की तरह लम्बा फैलानेवाला (औप, कस, ठा ५, १) । ^०रिख्खग पु [^०रिक्षिक] दण्डधारी प्रतीहार (निचू ६) । ^०रण न [रण्य] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल (पउम ४१, १, ७६, ५) । ^०साणिय वि [^०सनिक] दण्ड की तरह पैर फैला कर बैठनेवाला (कस) । देखो दडग, दडय ।

दड पु [दण्ड] १ दण्ड-नायक, सेनापति (वव १) । २ उवाल, उपान, 'जसिणोदग तिवडुक-लिय फासुयजलति जइ कप्प' (पव १३६, पिंड १८, विचार २५७) ।

दंडग } पु [दण्डक] १ कर्ण कुरण्डल नगर
दडय } का एक राजा (पउम १, १६) ।
२ दण्डाकार वाक्य-पद्धति, श्रन्याश-विशेष (राज) । ३ भवनपति आदि चौबीस दण्डक, पद-विशेष (द १) । ४ न दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जंगल (पउम ३१, २५) । ^०गिदि पु [^०गिदि] पर्वत विशेष (पउम ४२, १४) । देखो दड (उप ८६१, बृह १, सूत्र २, २, पउम ४०, १३) ।

दडण न [दण्डन] दण्ड-करण, शिक्षा (सूत्र २, २, न२, न३) ।

दडपासिग पु [दाण्डपाशिक] कोतवाल (मोह १२७) ।

दडलइअ वि [दण्डलातिक] दण्ड लेनेवाला, अपराधी (वव १) ।

दडावण न [दण्डन] सजा कराना, निग्रह कराना (आ १४) ।

दडाविअ वि [दण्डित] जिसको दण्ड विलाया गया हो वह (औप ५६७ टी) ।

दडि वि [दण्डिन्] १ दण्ड-युक्त । २ पु दण्डधारी प्रतीहार, दरवान (कुमा, ज ३) ।

दडिं देखो दडी (कुप्र ४४) ।

दडिअ पु [दण्डिक] १ सामन्त राजा (पव २६८) । २ राज कुलानुगत पुरुष (पव ६१) । ३ दण्डपाशिक, कोतवाल (धर्मस ५६६) ।

दडिअ वि [दण्डित] जिसको सजा दी गई हो वह, कैदी (सुपा ४६२) ।

दडिअ वि [दण्डिक] १ दण्डवाला । २ पुं राजा, नृप (वव ४) । ३ दण्ड-दाता, अपराध-विचार-कर्ता (वव १) ।

दडिआ वी [दे] लेख पर लगाई जाती राज-सुगा, ठप्पा, मोहर (बृह १) ।

दडिअ वि [दे] अपमानित, 'दडिअओ समाणो तमवहारेण नीरोइ' (उप ६४८ टी) ।

दडिणी वी [दे.दण्डिनी] रानी, राज-पत्नी (पिंड ५००) ।

दडिम वि [दण्डिम] १ दण्ड से निवृत्त । २ न सजा करके बसूल किया हुआ द्रव्य (शाया १, १—पत्र ३७) ।

दडी वी [दे] १ सूत्र-नमक । २ साँवा हुआ बल युग्म (दे ५, ३३) । ३ साँवा हुआ जीर्ण वस्त्र (शाया १, १६—पत्र १६६, पण्ड १, ३—पत्र ५६) ।

दद वि [ददत्] दान कर्ता, दाता (पिंड ५६४) ।

दद पु [दान्त] दो उपवास, बेला (सवोष ५८) ।

दद वि [दान्त] दो उपवास (सवोष ५८) ।

दद पु [दे] पर्वत का एक देश (दे ५, ३३) ।
दंत वि [दान्त] १ जिसका दमन किया गया हो वह, बश में किया हुआ, 'दतेण चित्तेण

चरति धीरा' (प्रासू १६५) । २ जितेन्द्रिय (शाया १, १४, वस १०) ।

दद पु [दन्] दाँत, दशन (कुमा, कप्प) ।
^०कुडी वी [^०कुटी] दंष्ट्रा, दाढ़ (वदु) । ^०च्छअ पु [^०च्छव] श्रोष्ठ, श्रोठ, होठ (पात्र) ।

^०धावण न [^०धावन] १ दाँत साफ करना, बतवन करना । २ दाँत साफ करने का काष्ठ, बतवन (पण्ड २, ४, निचू ३) । ^०पन्नखालण न [^०प्रक्षालन] वही पूर्वोक्त अर्थ (सूत्र १, ४, २) । ^०पाय न [^०पात्र] दाँत का बना हुआ पात्र (आचा २, ६, १) । ^०पुर न [^०पुर] नगर-विशेष (वव १) । ^०पहोयण न [^०प्रधावन] देखो धावण (वस ३) । ^०माल पु [^०माल] वृक्ष-विशेष (ज २) । ^०वक्क पु [^०वक्क] दन्तपुर नगर का एक राजा (वव १) ।

^०वलहिया वी [^०वलभिका] उद्यान विशेष (स ७०) । ^०वाणिज न [^०वाणिज्य] हाथी-दाँत बगैरह दाँत का व्यापार (धर्म २) ।

^०र पु [^०कार] दाँत का काम करनेवाला शिल्पी (पण्ड १) ।

ददकार पु [दन्तकार] दाँत बनानेवाला शिल्पी (अणु १४६) ।

दंतकुडी वी [दन्तकुण्डी] दाढ़, दंष्ट्रा (वदु ४१) ।

दंतवक्क पु [दान्तवाक्य] चक्रवर्ती राजा (सूत्र १, ६, २२) ।

दंतवण न [दे दन्तपवन] १ दन्त-शुद्धि । २ बतवन, दाँत साफ करने का काष्ठ (दे २, १२, ठा ६—पत्र ४६०, उवा, पव ४) ।

दतवण पुन [दे दन्तपवन] दतवन (वस ३, ६) ।

दतसोहण न [दन्तशोधन] दतवन (उत्त १६, २७) ।

दत्ताल पुत्री [दे] शन्न विशेष, घास काटने का हथियार (सुपा ५२६) । वी. ^०ली (कम्म १, ३६) ।

दति पु [दन्तिन्] १ हस्ती, हाथी (पात्र) । २ पर्वत-विशेष (पउम १५, ६) ।

दतिअ पु [दे] शशक, खरगोश, खरहा (दे ५, ३४) ।
दतिदिअ वि [दान्तेन्द्रिय] जितेन्द्रिय, इन्द्रिय-निग्रही (औष ४६ भा) ।

तिलोत्तमा स्त्री [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय अप्सरा (उप ७६८ टी, महा) ।
 तिलोदग } न [तिलोदक] तिल का धोवन —
 तिलोदय } जल (आचा, कम्प) ।
 तिल्ल न [तैल] तेल, तेल (सूक्त ३५, कुप्र २४०) ।
 तिल्ल न [तिल्ल] छन्द-विशेष (पिंग) ।
 तिल्लग वि [तैलक] तेल बेचनेवाला, तेलो (बृह १) ।
 तिल्लहडी स्त्री [दे] गिलहरी, शु० खीसकोवी (नदी टि पत्र १३३ मुद्रित) मारवाडी मे तालोडी, ताली ।
 तिल्लोदा स्त्री [तैलोदा] नदी विशेष (निचू १) ।
 तिर्ष (अप) देखो तहा (हे ४, ३६७) ।
 तित्रण्णी स्त्री [त्रिवर्णी] एक महौषधि (ती ५) ।
 तिवाय सक [त्रि + पातय्] मन, वचन और काय से नष्ट करना, जान से मार डालना । तिवायए (सूत्र १, १, १, ३) ।
 तिविक्रम पु [त्रिविक्रम] जैनमुनि, 'गहिया नियएहि (? तिपएहि) मही, तिविक्रमो तेण विक्कामो' (धर्मवि ८६) ।
 तिचिडा स्त्री [दे] सूची, सुई (दे ५, १२) ।
 तिचिडी स्त्री [दे] पुटिका, छोटा पुडवा (दे ५, १२) ।
 तिव्व वि [तीव्र] १ प्रवल, प्रचण्ड, उत्कट (भग १५, आचा) । २ रौद्र, भयानक, डरावना (सूत्र १, ५, १) । ३ गाढ, निविड (परह १, १) । ४ तिक्त, कडुआ (भग ६, ३४) । ५ प्रकृष्ट, उत्तम, प्रकर्ष-युक्त (णाय १, १—पत्र ४) ।
 तिव्व वि [द् तीव्र] १ दु सह, जो कठिनता से सहन हो सके (दे ५, ११, सूत्र १, ३, ३, १, ५, १, २, ६, आचा) । २ अत्यन्त अधिक, अत्यर्थ (दे ५, ११, धर्म २, ओप, परह १, ३, पचा १५, आव ६, उवा) ।
 तिसय वि [त्रिसस्थ] तीन वार सुनने से अच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला (धर्मस १२०७) ।
 तिसल्ला स्त्री [त्रिराला] भगवान् महावीर की माता का नाम (सम १५१) । सुअ पु [सुन] भगवान् महावीर (पउम १, ३३) ।

तिसा स्त्री [तृपा] प्यास, पिपासा (सुर ६, २०६, पात्र) ।
 तिसाइय } वि [तृपित] तृषानुर, प्यासा
 तिसिय } (महा, उव, परह १, ४, सुर १, १६६) ।
 तिसिर पु व [त्रिशिरस्] १ देश-विशेष (पउम ६८, ६५) २ पु तृप-विशेष (पउम ६६, ४६) । ३ रावण का एक पुत्र (से १२, ५६) ।
 तिरसगुत्त देखो तीसगुत्त (राज) ।
 तिह (अप) देखो तहा (कुमा) ।
 तिहि पृष्ठी [तिथि] पचदश चन्द्र-कला से युक्त काल, दिन, तारोख (चद १०, पि १८०) ।
 तीअ वि [तृतीय] तीसरा (सम १५०, सक्षि २०) ।
 तीअ नि [अतीत] १ गुजरा हुआ, बीता हुआ (सुपा ४४६, भग) २ पुं भूतकाल (ठा ३, ४) ।
 तीइल्ल पु [तैतिल्ल] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण-विशेष (विसे ३३४८) ।
 तीमण न [तीमन] कबी, खाद्य-विशेष, मोर (दे २, ३५, सण) ।
 तीमित्थि वि [तीमित] आद्र, गोला (कुप्र ३७३) ।
 तीय वि [तैत] तीन (सूत्र, १, २, २, २३) ।
 तीर अक [शक्] समर्थ होना । तीरइ (हे ४, ८६) ।
 तीर सक [तीरय्] समाप्त करना, परिपूर्ण करना । तीरइ, तीरेइ (हे ४, ८६, भग) । सक् तीरिचा (कम्प) ।
 तीर पुन [तीर] किनारा, तट, पार (स्वप्न ११६, प्रासू ६०, ठा ४, १, कम्प) ।
 तीरगम वि [तीरगम] पार-गामी, पार जाने-वाला (आचा) ।
 तीरट्ट पुं [तीरस्थ, तीरार्थ] साधु, मुनि, श्रमण (दसनि २, ६) ।
 तीरिय वि [तीरित] समापित, परिपूर्ण किया हुआ (पव ५) ।
 तीरिया स्त्री [दे] शर या तीर रखने का थैला, तरकश, तूणीर, बाणवि (?) । 'गहियमण्ण पामत्थ घणुवर, सविओ तीरियासरो' (स २६७) ।

तीस न [त्रिंशत्] १ संख्या-विशेष, तीस, ३० । २ तीस-सख्यावाला (महा, भवि) ।
 तीसआ } स्त्री [त्रिंशत्] ऊपर देखो (सक्षि
 तीसइ } २१) । *वरिस वि [वर्ष] तीस वर्ष की उम्र का (पउम २, २८) ।
 तीसइम वि [त्रिंश] १ तीसवा (पउम ३०, ६८) । २ न लगातार चौदह दिनों का उपवास (णाय १, १) ।
 तीसग वि [त्रिंशक] तीस वर्ष की उम्रवाला (सदु १७) ।
 तीसगुत्त पु [तिष्यगुत्त] एक प्राचीन आचार्य-विशेष, जिसने अन्तिम प्रदेश मे जीव की सत्ता का पत्थ चलाया था (ठा ७) ।
 तीसभद् पु [तिष्यभद्] एक जैनमुनि (कम्प) ।
 तीसम वि [त्रिंश] तीसवा (भवि) ।
 तीसा स्त्री देखो तीस (हे १, ६२) ।
 तीसिया स्त्री [त्रिंशिका] तीस वर्ष के उम्र की स्त्री (वव ७) ।
 तु अ [तु] इन अर्थों का सूचक अव्यय— भिन्नता, भेद, विशेषण (आ २७, विसे ३०३५) । २ अवधारण, निश्चय (सूत्र १, २, २) । ३ समुच्चय (सूत्र १, १, १) । ४ कारण, हेतु (निचू १) । ५ पाद-पूरक अव्यय (विसे ३०३५, पंचा ४) ।
 तुअ सक [तुइ] व्यथा करना, पीडा करना । तुअइ (षट्) । प्रयो सक्. तुयावइत्ता (ठा ३, २) ।
 तुअर पु [तुवर] धान्य-विशेष, रहुर (जं १) ।
 तुअर अक [त्वर] त्वरा होना, शीघ्र होना, जल्दी होना । तुअर (गा ६०६) ।
 तुग वि [तुङ्ग] १ ऊँचा, उच्च (गा २५६, औप) । २ पु छन्द-विशेष (पिंग) ।
 तुंगार पु [तुङ्गार] अग्नि कोण का पवन (आवम) ।
 तुगिम पुष्ठी [तुङ्गिमन्] ऊँचाई, उच्चत्व (सुपा १२४, वज्जा १५०, कम्प, सण) ।
 तुगिय पुं [तुङ्गिक] १ शम-विशेष (आवम) । २ पर्वत-विशेष, 'तुगे तुगियसिहरे गतु तिक्क तव तवइ' (कुप्र १०२) । ३ पुष्ठी गोन-विशेष में उल्लस, 'जसमइ तुगिय चैव' (एदि) ।

कर्म का पारितोषिक, दान, शेंट (कप्प, सूअ २, ५)। कखि वि [काङ्क्षिन्] दक्षिणा का अभिलाषी (पउम ३०, ६३)। यण न [यन] १ सूर्य का दक्षिण दिशा में गमन। २ कर्म की संक्रान्ति से घन की संक्रान्ति तक के छ मास का काल (जो १)। वध, वह पु [पथ] दक्षिण देश (कप्प, १४२ टी)।

दक्खिणापुव्वा देखो दक्खिण-पुव्वा (पव १०६)।

दक्खिणिल्ल वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा में उत्पन्न या स्थित (सम १००, पउम ६, १५६)।

दक्खिणेय वि [दाक्षिणेय] जिसको दक्षिणा दी जाती हो वह (विसे ३२७१)।

दक्खिणण } न [दाक्षिण्य] १ मुलाहजा, दक्खिन्न } गुरुवत, 'दक्खिणण वि एतो सुहण सुहावेसि अहं हिअआइ' (गा ८५, स्वान ६८)। २ उदारता, औदार्य। ३ सरलता, मार्दव (सुर १, ६५, २, ६२, प्रासू ८)। ४ अनुकूलता (दस २)।

दक्खिय वि [दर्शित] दिखलाया हुआ (भवि)। दक्खु देखो दक्ख = दृश्।

दक्खु देखो दक्ख = दक्ष (सूअ १, २, ३)।

दक्खु वि [पश्य, द्रष्टृ] १ देखनेवाला। २ पुं. सर्वज्ञ, जिन-देव (सूअ १, २, ३)।

दक्खु वि [दृष्ट] १ विलोकित। २ पुं सर्वज्ञ, जिन-देव (सूअ १, २, ३)।

दग न [दक] १ पानी, जल (स ५१, ६ ३४, कप्प)। २ पुं ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३)। ३ लवण-समुद्र में स्थित एक आवास पर्वत (सम ६८)। गग्गम पु [गग्ग] अन्न, बादल (ठा ४, ४)। तुंड पुं [तुण्ड] पक्षि-विशेष (पएह १, १)। पचवन्न पुं [पचवर्ण] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक ग्रह का नाम (ठा २, ३)। पासाय पु [प्रासाद] स्फटिक रत्न का बना हुआ महल (ज १)। पिप्पली खी [पिप्पली] वनस्पति-विशेष (पएण १)। भास पु [भास] बेलघर नागराज का एक आवास-पर्वत (सम ७३)। मचग पुं

[मञ्जक] स्फटिक रत्न का मन्च (ज १)। मडव पुं [मण्डप] १ मण्डप-विशेष, जिसमें पानी टपकता हो (पएह २, ५)।

२ स्फटिक रत्न का बनाया हुआ मण्डप (ज १)। मट्टिया, मट्टी खी [मृत्तिका] १ पानीवाली मिट्टी (बृह ४, पडि)। २ कला-विशेष (ज २)। रक्खस पु [राक्षस] जल-मानुष के आकार का जंतु-विशेष (सूअ १, ७)। रय पुन [रजस्] उदक-बिन्दु, जल-कणिका (कप्प)। वणण पु [वर्ण] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (सुज्ज २०)। वारग, वारय पु [वारक] पानी का छोटा घटा (राय, खाया १, २)। सीम पु [सीमन्] बेलघर नागराज का एक आवास-पर्वत (राज)।

दग न [दक] स्फटिक रत्न (राय ७५)।

सोयरिअ वि [शौकरिक] सांख्य मत का अनुयायी (पिंड ३१४)।

दच्चा देखो दा।

दच्छ देखो दक्ख = दृश्। भवि, दच्छ, दच्छसि, दच्छिहिसि (प्राप्र, उत्त २२, ४४, गा ८१६)।

दच्छ देखो दक्ख = दक्ष, 'रोगसमदच्छ ओसह' (उप ७२८ टी, पएह २, ३—पत्र ४५, हे २, १७)।

दच्छ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज (दे ५, ३३)।

दज्जत } देखो दह = वह।
दज्जमाण }

दट्ट वि [दष्ट] जिसको दाँत से काटा गया हो वह (षड्, महा)।

दट्ट वि [दष्ट] देला हुआ, विलोकित (राज)।

दट्टिय वि [दार्ष्टान्तिक] जिसपर दृष्टान्त दिया गया हो वह अर्थ (उप ५ ४३)।

दट्टव्व } देखो दक्ख = दृश्।
दट्टु }

दट्टु वि [द्रष्टृ] देखनेवाला, प्रेक्षक, दर्शक (विसे १८६५)।

दट्टुआण }

दट्टु } देखो दक्ख = दृश्।
दट्टुहण }

दट्टुहण }

दट्टुहण }

दडवड पुं [दे] १ घाटी, दर्रा, श्रवस्कर (दे ५, ३५, हे ४, ४२२, भवि)। २ शीघ्र, जल्दी (चड)।

दडि खी [दे] वाद्य-विशेष (भवि)।

दड्ड वि [दग्ध] जला हुआ (हे १, २१७, भग)।

दड्डालि खी [दे] दध-मार्ग (षड्)।

दड वि [दड] १ मजबूत, बलवान्, पोड (श्रीप, से ८, ६०)। २ निश्चल, स्थिर, निष्कम्प (सूअ १, ४, १, आ २८)। ३ समर्थ, क्षम (सूअ १, ३, १)। ४ अति-निविड, प्रगाढ (राय)। ५ कठोर, कठिन (पचा ४)। ६ क्लिबि, अतिशय, अत्यन्त (पचा १, ७)। केड पुं [केतु] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव का नाम (पव ७)। जेमि देखो नेमि (राज)। धणु [धनुष] १ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी कुलकर का नाम (सम १५३)। २ भरत-क्षेत्र के एक भावी कुलकर का नाम (राज)। धम्म वि [धर्मन्] १ जो धर्म में निश्चल हो (बृह १)। २ देव-विशेष का नाम (आवम)। धिईय वि [धृत्तिक] अतिशय धैर्यवाला (पउम २६, २२)। नेमि पुं [नेमि] राजा समुद्रविजय का एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा ली थी और सिद्धाचल पर्वत पर मुक्ति पाई थी (अत १४)। पडणण वि [प्रतिज्ञ] १ स्थिर-प्रतिज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ। २ पुं सूर्याभ देव का आगामी जन्म में होनेवाला नाम (राय)। प्पहारि वि [प्रहारिन्] १ मजबूत प्रहार करनेवाला। २ पुं जैनमुनि-विशेष, जो पहले चोरो का नायक था और पीछे से दीक्षा लेकर मुक्त हुआ था (खाया १, १८, महा)। भूमि खी [भूमि] एक गाँव का नाम (आवम)। भूड वि [भूड] नितांत मूर्ख (दे १, ४)। र्ह पुं [रथ] १ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)। २ भगवान् श्री शितलनाथजी के पिता का नाम (सम १५१)। र्हा खी [रथा] लोकपाल आदि देवों के अन्न-महिषियों की वाह परियद् (ठा ३, १—पत्र १२७)। उड पुं [युप] भगवान् महावीर के समय

तुष्णिय वि [तुष्णित] रफू किया हुआ, सांघा हुआ-बृह १) ।

तुष्णि अ [तूष्णीम्] मौन, चुप्पी, चुपकी, चुपचाप, चुपकेसे, मौन होकर (भवि) ।

तुष्णि पु [दे] सूकर, मूषर (दे ५, १४) ।
तुष्णि देखो तुष्णि = तूष्णीम् (प्राक् ३२) ।
तुष्णिअ वि [तूष्णीक] मौन रहा हुआ,
तुष्णिक् मौन रहनेवाला, चुप रहनेवाला (प्राप्, गा ३५४, सुर ४, १४८) ।

तुष्णिक् वि [दे] मृदु-निम्बल (दे ५, १५) ।
तुष्णीअ देखो तुष्णिअ (स्वप्न ४२) ।
तुत्त देखो तोत्त (सुपा २३७) ।
तुद देखो तुअ । तुदए (षड्) । वक्क तुद (विसे १४७०) ।

तुद पु [तोद] प्रतोद, अरवार उडा, चातुक (सूअ १, ५, २, ३) ।
तुन्नण न [तुन्नन] रफू करना (गच्छ ३, ७) ।
तुन्नाय देखो तुष्णाय (एदि १६४) ।
तुन्नार पु [तुन्नकार] रफू करनेवाला शिल्पी (धर्मवि ७३) ।

तुप्प पु [दे] १ कौतुक । २ विवाह, शादी । ३ सर्प, सरसो, शान्य-विशेष । ४ कुतुप, धी आदि भरने का चर्म पात्र (दे ५, २२) । ५ वि अक्षित, चुपडा हुआ, धी आदि से लिप्त (दे ५, २२, कप्प, गा २२, २८६, हे १, २००) । ६ स्निग्ध, स्नेह युक्त (दे ५, २२, शोध ३०७ भा) । ७ न घृत, धी (से १५, ३८, सुपा ६३४, कुमा) ।

तुप्प वि [दे] वैष्टित (अणु २६) ।
तुप्पइअ वि [दे] धी से लिप्त (गा ५२० अ) ।
तुप्पविअ वि [दे] धी से लिप्त (गा ५२० अ) ।

तुमतुम पुं [दे] क्लोष-कृत मनो-विकार विशेष (ठा ८—पत्र ४४१) ।

तुमतुम पुं [दे] १ तूकारवाला वचन, तिरस्कार वचन, तू तू (सूअ १, ६, २७) । २ वाक्-कलह, 'अप्पतुमतुमे' (उत्त २६, ३६) । ३ वि तूकारे से बात कहनेवाला (सवोध १७) ।

तुसुल पु [तुसुल] १ लोम-हर्षण युद्ध, भयानक सभाम (गच्छ ३) । २ न, शोरयुल (पाअ) ।

तुम्ह स [युष्मत्] तुम, आप (हे १, २४६) ।

तुम्हकेर वि [त्वदीय] तुम्हारा (कुमा) ।
तुम्हकेर वि [युष्मदीय] आपका, तुम्हारा (हे १, २४६, २, १४७) ।

तुम्हार (अप) ऊपर देखो (भवि) ।
तुम्हारिस वि [युष्मादृश] आपके जैसा, तुम्हारे जैसा (हे १, १४२, गच्छ, महा) ।
तुम्हेश्चय वि [यौष्माक] आपका, तुम्हारा (हे २, १४६, कुमा, षड्) ।

तुयट्ट अक [त्वग् + वृत्] पार्श्व को घुमाना, करवट फिराना । तुयट्टइ, (कप्प, भग) ।
तुयट्टेअ, तुयट्टेअ (भग, श्रौप) । हेक्क, तुयट्टित्तए (आचा) । क्क, तुयट्टियच्च (शाया १, १, भग, श्रौप) ।

तुयट्टण न [त्वग्वर्तन] पार्श्व-परिवर्तन, करवट फिराना (शोध १५२ भा, श्रौप) ।

तुयट्टावण न [त्वग्वर्तन] करवट बदलवाना । (आचा) ।

तुयावइत्ता देखो तुअ ।
तुर अक [त्वर] त्वरा होना, जल्दी होना, शीघ्र होना । वक्क तुरत, तुरेत, तुरमाण, तुरेमाण (हे ४, १७२, प्रासू ५८, षड्) ।

तुर^० } ली [त्वरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५, तुरा } १६) । वत वि [वत्] त्वरा-युक्त, तुरग पु [तुरङ्ग] अश्व, घोडा (कुमा, प्रासू ११७) । २ रामचन्द्र का एक सुभट (पञ्च ५६, ३८) ।

तुरगम पु [तुरङ्गम] अश्व, घोडा (पाअ, पिग) ।

तुरगिआ ली [तुरङ्गिका] घोडी (पाअ) ।
तुरत देखो तुर ।

तुरक्क पु [दे तुरुक्क] १ देश-विशेष, तुकिस्तान । २ अनायें जाति-विशेष, तुर्क (ती १४) ।

तुरग देखो तुरय (भग ११, ११, राय) ।
'सुह पु [सुख] अनायें देश-विशेष (सूअ १, ५ टी) । 'मेढग पुं [मेढक] अनायें देश-विशेष (सूअ १, ५, १ टी) ।

तुरमणी देखो तुरुमणी (सङ्घि ५७ टी) ।
तुरमाण देखो तुर ।

तुरय पु [तुरग] १ अश्व, घोडा (पगह १, ४) । २ छन्द-विशेष (पिग) । 'देहपिंजरण न [देहापञ्जरण] अश्व को सिंगारना, सँवारना, शृंगार करना (पाअ) । देखो तुरग ।
तुरयसुह देखो तुरग-सुह (पव २७४) ।
त्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०) ।

तुरिअ वि [त्वरित] १ त्वरा-युक्त, उतावला (पाअ, हे ४, १७२, श्रौप, प्राप्) । २ क्रिवि. शीघ्र, जल्दी (सुपा ४६४ भवि) । 'गइ वि [गति] १ शीघ्र गतिवाला । २ पुं. अमितगति नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) ।

तुरिअ वि [तुर्य] चौथा, चतुर्थ (सुर ४, २५०, कम्म ४, ६६, सुपा ४६४) । 'निदा ली [निद्रा] मरणदशा (उप पु १४३) ।

तुरिअ न [तुर्य] वाद्य, वावित्र, वाजा, 'तुरियाण सनिनाएण, दिव्वेण गगण फुल्ले' (उत्त २२, १२) ।

तुरिमिणी देखो तुरुमणी (राज) ।
तुरी ली [दे] १ पीन, पुष्ट । २ शय्या का उपकरण (दे ५, २२) ।

तुरु न [दे] वाय-विशेष (विक्र ८७) ।
तुरुक्क न [तुरुक्क] सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो घुप करने में काम आता है, लोबान, सिल्हक (सम १३७, शाया १, १, पञ्च २, ११, श्रौप) ।

तुरुक्क पु [तुरुक्क] १ देश-विशेष, तुकिस्तान । २ वि तुकिस्तान का (स १३) ।

तुरुक्की ली [तुरुक्की] लिपि-विशेष (विसे ४६४ टी) ।

तुरुमणी ली [दे] नगरी-विशेष (भत्त ६२) ।
तुरेत } देखो तुर ।
तुरेमाण }

तुल सक [तोलय्] १ तौलना । २ उठाना । ३ ठीक-ठीक निश्चय करना । तुलइ, तुलेइ (हे ४, २५, उव, वजा १५८) । वक्क तुलंत (पिग) । सक. तुलेउण (बृह १) । क्क. तुलेअच्च (से ६, २६) ।

तुल^० देखो तुला (सुपा ३६) ।
तुलगा देखो तुलगगा (अच्छु ८०) ।
तुलगग न [दे] काकतालीय न्याय (दे ५, १५, से ४, २७) ।

३) ४ पशुओं को दी जाति शिक्षा (पउम १०३, ७१)।
 दमणक } पुन [दमनक] १ दौता, सुगन्धित
 दमणग } पत्रवाली वनस्पति-विशेष (परह
 दमणय) २, ५, परण १, गउड)। छन्द-
 विशेष (पिंग)। ३ गन्ध-द्रव्य-विशेष (राज)।
 दमदमा अक [दमदमाय्] आडम्बर
 करना। दमदमाइ, दमदमाइइ (हे ३, १३८)।
 दमय वि [दे द्रमक] दरिद्र, रक, गरीब
 (दे ५, ३४, विसे २८४५)।
 दमयती स्त्री [दमयन्ती] राजा नल की पत्नी
 का नाम (पडि, कुप्र ५४, ५६)।
 दमि वि [दमिन्] जितेन्द्रिय (उत्त २२)।
 दमिअ वि [दमित] निगृहीत, रोका हुआ
 (गा ८२३, कुप्र ४८)।
 दमिल पु [द्रविड] १ एक भारतीय देश।
 २ पुत्री उसके निवासी मनुष्य, द्राविड (कुप्र
 १७२, इक, औप)। स्त्री °ली (णाय १,
 १, इक, औप)।
 दमेयव्य } देखो दम = दमय्।
 दम्म }
 दम्म पुं [द्रम्म] सोने का सिक्का, सोना-
 मोहर (उप पृ ३८७, हे ४, ४२२)।
 दम्मत् देखो दम = दमय्।
 दय सक [दय्] १ रक्षण करना। २ कृपा
 करना। ३ चाहना। ४ देना। दयइ (आचा)।
 वक्र दअत्, दअमाण। (से १२, ६४, ३,
 १२, अभि १२)।
 दय न [दे दक] जल, पानी (दे ५, ३३,
 वृह १)। °सीम पु [°सीमन्] लवण-समुद्र
 में स्थित एक आवास-पर्वत (सम ६८)।
 दय न [दे] शोक, अफसोस, बिलगिरी (दे ५,
 ३३)।
 दय देखो दव = दव (से १, ५१, १२, ६५)।
 °दय वि [°दय] देनेवाला (कप्प, पडि)।
 दया स्त्री [दया] करुणा, अनुकम्पा, कृपा
 (वस ६, १)। °वर वि [°पर] दयालु
 (पउम २६, ४०, उप पृ १६१)।
 दयाइअ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५)।
 दयालु वि [दयालु] दयावाला, करुण (हे १,
 १७७, १८०, पउम १६, ३१, सुपा ३४०,
 आ १६)।

दयावण } वि [दे] दीन, गरीब, रक (दे
 दयावन्न) ५, ३५, भवि, पउम ३३, ८६)।
 दर सक [दृ] आदर करना। दरइ (षड्)।
 दर पुन [दर] भय, डर (कुमा)। २ अ
 ईषत्, थोडा, अल्प (हे २, २१५)।
 दर पुन [दर] १ गुफा, कन्दरा। २ गर्त,
 गड्ढा, गढा या गढहा, दरार, 'सि य दरा
 मिढया ते य' (धर्मवि १४०)।
 दर न [दे] अड्ड, आधा (दे ५, ३३, भवि,
 हे २, २१५, वृह ३)।
 दरदर पुं [दे] जल्लास (दे ५, ३७)।
 दरमत्ता स्त्री [दे] बलात्कार, जबरदस्ती
 (दे ५, ३७)।
 दरमल सक [मर्दय्] १ चूर्ण करना,
 विदारना। २ आघात करना। दरमलइ
 (भवि)। वक्र दरमलत् (भवि)।
 दरमलिय वि [मर्दित] आहत, चूर्णित
 (भवि)।
 दरवल्लिअ वि [दे] उपभुक्त (कुमा)।
 दरवल्ल पु [दे] ग्राम-स्वामी, गाँव का मुखिया
 (दे ५, ३६)। °गिहेल्लण न [दे] शून्य
 गृह, खाली घर (दे ५, ३७)। °वल्लइ पुं
 [वल्लभ] १ दयित, प्रिय (दे ५, ३७)। २
 कातर, डरपोक (षड्)। °विंदर वि [दे]
 १ दीर्घ, लम्बा। २ विरल (दे ५, ५२)।
 दरस (शौ) देखो दरिस्। दरसेदि (प्राकृ
 ६६)।
 दरि न [दरी] कन्दरा, गुफा, 'दरीणि वा'
 (आचा २, १०, २)।
 दरि° देखो दरी। °अर पु [°वर] किनर
 (से ६, ४४)।
 दरिअ वि [दृप्त] गविष्ठ, अभिमानी (हे १,
 १४४, पाप्र)।
 दरिअ वि [दीर्ण] १ डरा हुआ, भीत (कुमा,
 सुपा ६४५)। २ फाडा हुआ, विदारित
 (अत ७)।
 दरिअ (अप) पु [दरिद्र] छन्द विशेष (पिंग)।
 दरिआ स्त्री [दरिका] कन्दरा, गुफा (नाट—
 विक्र ८४)।
 दरिइ वि [दरिद्र] १ निर्धन, नि स्व, धन-
 रहित। २ दीन, गरीब (पाप्र, प्रासू २३,
 कप्प)।

दरिहि } वि [दरिद्रिन्, °क] ऊपर देखो,
 दरिहिय } 'अन्हे दरिद्रिणो, कह विवाहमगल
 रनो य पूयं करेयो' (महा, सण, पि २५७)।
 दरिहिय वि [दरिद्रित] दु स्थित, जो धन-
 रहित हुआ हो (महा, पि २५७)।
 दरिहीहूय वि [दरिद्रिभूत] जो निर्धन हुआ
 हो (ठा ३, १)।
 दरिस सक [दर्शय्] दिखलाना, बतलाना।
 दरिसइ, दरिसेइ (हे ४, ३२, कुमा, महा)।
 वक्र दरिसत् (सुपा २४)। कृ दरिसणिज्ज,
 दरिसणीय (औप, पि १३५, सुर १०, ६)।
 दरिसण देखो दसण = दर्शन (हे २, १०५)।
 °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (इक)।
 °आवरणी स्त्री [°वरणी] विद्या-विशेष
 (पउम ५६, ४०)।
 दरिसणिज्ज न [दर्शनीय] १ आकृति, रूप।
 २ भवलोकन (तदु ३६)।
 दरिसणिज्ज } देखो दरिस। २ न भेंट, उप-
 दरिसणीय } हार, 'गहिअण दरिसणीय
 संपत्तो राइणो मूल' (सुर १०, ६)।
 दरिसाव देखो दरिस। वक्र दरिसावत् (उप
 पृ १८८)।
 दरिसाव पु [दर्शन] दर्शन, साक्षात्कार-
 'एतो य महप्पा कइयथरेसु दरिसाव दाअण
 पडिनियत्तइ' (महा), 'पईव इव दाव खण्णेग
 दरिसाव पुणोवि अइसणीहोइ' (सुपा ११५)।
 दरिसाव पु [दर्शन] दिखाना (वव १)।
 दरिसावण न [दर्शन] १ दर्शन, साक्षात्कार
 (आव १)। २ वि दर्शक, दिखलानेवाला
 (भवि)।
 दरिसिअ वि [दर्शिन्] देखनेवाला (उवा, पि
 १३५, स ७२७)।
 दरिसिअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ
 (कुमा, उव)।
 दरी स्त्री [दरी] गुफा, कन्दरा (णाय १, १;
 से ६, ४४, उप पृ २६८, स ४१३)।
 दरुम्मिअ वि [दे] धन, तिबिड (दे ५, ३७)।
 दल सक [दा] देना, दान करना, अर्पण
 करना। दलइ (कप्प, कस), 'ज तस्स मोल्ल
 तमह दलामि' (उप २११ टी)। वक्र दल-
 माण, दलेमाण (कप्प, णाय १, १६,—
 पत्र २०४, ठा ४, २—पत्र २१६) सङ्ग.
 दलित्ता (कप्प)।

तूहण पुं [दे] पुरुष, श्रावमी (दे ५, १७)।
 ते° देखो ति = वि। °आलीस खीन
 [°चत्वारिंशत्] १ सख्या-विशेष, चालीस
 और तीन की सख्या। २ तेमालीस की
 सख्यावाला (सम ६८)। °आलीसइम वि
 [°चत्वारिंश] तेमालीसवाँ, ४३वाँ (पउम ४३,
 ४६)। °आसी खी [°अशीति] १ सख्या-
 विशेष, अस्ती और तीन। २ तिरासी की
 सख्यावाला (पि ४४६)। °आसीइम वि
 [°अशीतितम] तिरासीवाँ (सम ८६, पउम
 ८३, १४)। °इंदिय पु [°इन्द्रिय] स्पर्श,
 जीम और नाक इन तीन इन्द्रियवाला प्राणी
 (ठा २, ४, जी १७)। °ओय पु
 [°ओजस्] विषम राशि-विशेष (ठा ४,
 ३)। °णउइ खी [°नवति] तिरानवे, नब्बे
 और तीन, ६३ (सम ६७)। °णउय वि
 [°नवत्] तिरानवेवाँ, ६३ वाँ (कप्य, पउम
 ६३, ४०)। °णउइ देखो °णउइ (सुपा
 ६५४)। °तीस, °चीस खीन [त्रयस्त्रि-
 शत्] तेतीस, तीस और तीन (भग, सम
 ५८)। खी. °सा (हे १, १६५, पि ४४७)।
 °चीसइम वि [त्रयस्त्रिंश] तेतीसवाँ (पउम
 ३३, १४८)। °वट्टि खी [षट्ति] तिरसठ,
 साठ और तीन, ६३ (पि २६५)। °वण्ण, °वन्न
 खीन [°पञ्चाशत्] त्रेपन, पचास और
 तीन, ५३ (हे २, १७४, षड्, सम ७२)।
 °वत्तारि खी [°सप्तति] तिहत्तर (पि २६५)।
 °वीस खीन [त्रयोविंशति] तेइस, बीस और
 तीन, २३ (सम ४२, हे १, १६५)। °वीस,
 °वीसइम वि [त्रयोविंश] तेइसवाँ (पउम
 २०, ८२, २३, २६, ठा ६)। °सम्भ न
 [°सन्ध्य] प्रात, मध्याह्न और सायंकाल का
 समय (पउम ६६, ११)। °सट्टि खी
 [°षट्ति] देखो °वट्टि (सम ७७)। °सीइ
 खी [°अशीति] तिरासी, अस्ती और तीन
 (सम ८६, कप्य)। °सीइम वि [°अशीत]
 तिरासीवाँ (कप्य)।
 तेअ सक [तेज्य] तेज करना, पैनाना, धार
 तेज करना, तोड़ण करना। तेइय (पड्)।
 तेअ देखो तइअ = तृतीय (रभा)।
 तेअ पुं [तेजस्] १ कान्ति, वीति, प्रकाश,
 प्रमा (उवा, भग, कुमा, ठा ८)। २ ताप,

अभिताप (कुमा, सूत्र १, ५, १)। ३ प्रताप।
 ४ माहात्म्य, प्रभाव। ५ बल, पराक्रम
 (कुमा)। °मत वि [°विन्] तेजवाला,
 प्रमा-युक्त (परह २, ४)। °वीरिय पु
 [°वीर्य] भरत चक्रवर्ती के प्रपौत्र का पौत्र,
 जिसको श्रावर्ष भवन मे केवलज्ञान हुआ था
 (ठा ८)।

तेअ न [स्तेय] चोरो (भग २, ७)।

तेअ देखो तेअय (भग)।

तेअ पु [?] एक, स्तम्भ।

तेअसि वि [तेजस्विन्] तेजवाला, तेज-युक्त
 (श्रीप, खण ४, भग, महा, सम १५२,
 पउम १०२, १४१)।

तेअग देखो तेअय (जीव)।

तेअण न [तेजन] १ तेज करना, पैनाना।
 २ उत्तेजन (हे ४, १०४)। ३ वि. उत्तेजित
 करनेवाला (कुमा)।

तेअय न [तैजस] शरीर-सहचारी सूक्ष्म
 शरीर-विशेष (ठा २, १, ५, १, भग)।

तेअलि पु [तेतलिन्] १ मनुष्य जाति-विशेष
 (ज १, इक)। २ एक मन्त्री के पिता का
 नाम (खाया १, १४)। °पुत्त पुं [°पुत्र]
 राजा कनकरथ का एक मन्त्री (खाया १,
 १४)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (खाया
 १, १४)। °सुय पु [°सुत] देखो °पुत्त
 (राज)। देखो तेतलि।

तेअव अक [प्र + दीप्] १ दीपना,
 चमकना। २ जलना। तेअवइ (हे ४, १५२,
 षड्)।

तेअवाल देखो तेजपाल (हम्मौर २७)।

तेअविय वि [प्रदीप्त] जला हुआ (कुमा)।
 २ चमका हुआ, उदीत (पाभ)।

तेअविय वि [तेजित] तेज किया हुआ (दे
 ८, १३)।

तेअस्सि पु [तेजस्विन्] इह्वाकु वश के
 एक राजा का नाम (पउम ५, ५)।

तेआ खी [तेजा] पक्ष की तेरहवीं रज
 (सुज १०, १४)।

तेआ खी [तेजस्] त्रयोदशी तिथि (जी
 ४, ज ७)।

तेआ खी [त्रेता] युग-विशेष, दूसरा युग-
 'तेम्राजुगे य दासरही रामो सीयालकखण-
 सजुओवि' (ती २६)।

तेआ° देखो तेअय (सम १४२, पि ६४)।

तेआलि पु [दे] वृक्ष-विशेष (परण १,
 १—पत्र ३४)।

तेइच्छ न [चैकित्स्य] चिकित्सा-कर्म,
 प्रतीकार (दस ३)।

तेइच्छा खी [चिकित्सा] प्रतीकार, इलाज,
 दवा (भाचा, खाया १, १३)।

तेइच्छिय देखो तेगिच्छिय (विपा १, १)।

तेइच्छी खी [चिकित्सा, चैकित्सी]
 प्रतीकार, इलाज (कप्य)।

तेइजग वि [तार्तीयिक] १ तीसरा। २
 ज्वर-विशेष, जाडा देकर तीसरे-तीसरे दिन
 पर श्रानेवाला ज्वर, तिजारा (उत्तनि ३)।

तेइइ देखो तेअसि (सुर ७, २१७, सुपा
 ३३)।

तेउ पुं [तेजस्] १ आग, अग्नि (भग, ई
 १३)। २ जेर्या-विशेष, तेजो-जेर्या (भग,
 कम्म ४, ५०)। ३ अग्निशिल नामक इन्द्र
 का एक लोकपाल (ठा ४, १)। ४ ताप,
 अभिताप (सूत्र १, १, १)। ५ प्रकाश,
 उद्योद (सूत्र २, १)। °आय देखो °काय
 (भग)। °कत पु [°कान्त] लोकपाल देव-
 विशेष (ठा ४, १)। °काइय पुं [°कायिक]
 अग्नि का जीव (ठा ३, १)। °काय पुं
 [°काय] अग्नि का जीव (पि ३५५)।
 °ककाइय देखो °काइय (परण १, जीव
 १)। °पभ पुं [°प्रभ] अग्निशिल नामक
 इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। °पफास
 पुं [°स्पर्श] उष्ण स्पर्श (भाचा)। °लेस
 वि [°लेर्य] तेजो-नेश्यावाला (भग)।
 °लेसा खी [°लेर्या] तप विशेष के प्रभाव
 से होनेवाली शक्ति-विशेष से उत्पन्न होती
 तेज की ज्वाला (ठा ३, १, सम ११)।
 °लेस देखो °लेस (परण १७)। °लेसा
 देखो °लेसा (ठा ३, ३)। °सिंह पु
 [°शिख] एक लोकपाल (ठा ४, १)।
 °सोय न [शौच] भस्म आदि से किया
 जाता शौच (ठा ५, २)।

पक्ष, नय-विशेष, 'दब्बद्वियस्स सव्व सया अणुपपन्नमविण्णट्ठ' (सम्म ११, विसे ४५७)।
 'लिंगि न [लिङ्ग] बाह्य वेप (पचा ४)।
 'लिंगि वि [लिङ्गिन्] भेषधारी साधु (पु १०)।
 'लेस्सा ली [लेश्या] शरीर आदि पौद्गलिक वस्तु का रंग, लन (भग)।
 'वेय पु [वेद] पुरुष आदि का बाह्य आकार (राज)।
 'यारिय पुं [आचार्य] अप्रधान आचार्य, आचार्य के श्रुणो से रहित आचार्य (पचा ६)।

दब्ब न [द्वय] योग्यता, 'समयम्मि दब्ब-सद्वो पाय ज जोग्गयाए खो ति, एिख्खच-रितो' (पचा ६, १०)।

दब्बहल्लिया ली [द्वयहल्लिका] वनस्पति-विशेष (परए १—पत्र ३५)।

दब्बिं देखो दब्बी (पह)।

दब्बिदिअ न [द्वयेन्द्रिय] स्थूल इन्द्रिय (भग)।

दब्बी ली [द्वी] १ कछी, कलछी, चमची, जोई (पात्र)। २ साँप की फन (दे ५, ३७)।
 'अर कर पुं [कर] साँप, सर्प (दे ५, ३७, परए १)।

दब्बी ली [दे] वनस्पति-विशेष (परए १—पत्र ३४)।

दस वि ब. [दशान्] दस, नौ और एक (हे १, १६२, ठा ३, १—पत्र ११६, सुपा २६७)।
 'उर न [पुर] नगर-विशेष (विसे २३०३)।
 'कठ पु [कण्ठ] रावण, एक लका-पति (से १५, ६१)।
 'कथर पु [कन्धर] राजा रावण (गडह) का लिय न [कालिक] एक जैन आगम-ग्रथ (दसनि १)।
 'ग न [क] दश का समूह (द ३८, नव १२)।
 'गुण वि [गुण] दस गुना (ठा १०)।
 'गुणिअ वि [गुणित] दस-गुना (भग, आ १०)।
 'ग्रीव पु [ग्रीव] रावण (पत्र ७३, ८)।
 'दस मिया ली [दशमिका] जैन साधु का एक धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिमा-विशेष (सम १००)।
 'दिवसिय वि [दिवसिक] दस दिन का (एया १, १—पत्र ३७)।
 'द्व पुं [ध] पाँच, ५ (सम ६०, एया १,

१)।
 'धणु पु [धनुप्] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष (सम १५३)।
 'पपसिय वि [प्रादेशिक] दस भवयव-वाला (ठा १०)।
 'पुर देखो 'उर (महा)।
 'पुन्वि वि [पूर्विन्] दस पूर्व-ग्रन्थो का अभ्यासी (श्रीष १)।
 'वल पु [वल] भगवान् बुद्ध (पात्र: हे १, २६२)।
 'म वि [म] १ दसवाँ (राज)। २ चार दिनों का लगातार उपवास (आचा: एया १, १, सुर ४, ५५)।
 'मभक्तिय वि [मभक्तिक] चार दिनों का लगातार उपवास करनेवाला (परह २, ३)।
 'मासिअ वि [मापिक] दस मासे का तौलवाला, दस मासे का परि-माणवाला (कप्प)।
 'मी ली [मी] १ दसवाँ। २ तिथि-विशेष (सम २६)।
 'मुद्दि-याणतगा न [मुद्दिकानन्तक] हाथ की उगलियों की दस अण्डिका (श्रीष)।
 'मुह पु [मुख] रावण, राक्षस-पति (हे १, २६२, प्राप्र: हेका ३३४)।
 'मुहसुअ पु [मुखसुत] रावण का पुत्र, मेघनाद आदि (से १३, ६०)।
 'य देखो 'ग (ठा १०)।
 'रत्त न [रात्र] दस रात (विपा १, ३)।
 'रह पु [रथ] १ रामचन्द्रजी के पिता का नाम (सम १५२, पत्र २०, १८३)। २ अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न एक कुलकर पुरुष (ठा ६—पत्र ४४७)।
 'रहसुय पु [रथसुत] राजा दशरथ का पुत्र—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न (पत्र ५६, ८७)।
 'वअण पु [वदन] राजा रावण (से १०, ५)।
 'वल देखो 'वल (प्राप्र)।
 'विह वि [विध] दस प्रकार का (कुमा)।
 'वैआ-लिअ न [वैकालिक] जैन आगम-ग्रथ-विशेष (दमनि १, एदि)।
 'हा अ [घा] दस प्रकार से (जी २४)।
 'णण पु [णन] राक्षसेश्वर रावण (से ३, ६३)।
 'हिद्या ली [हिका] पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य में किया जाता दस दिनों का एक उत्सव (कप्प)।

दसग वि [दशक] दस वर्ष की उम्र का (तदु १७)।

दसण पुं [दशान्] १ दात, दन्त (भग, कुमा)। २ न दश, काटना (पत्र ३८)।
 'च्छय पु [च्छद] होठ, अघर, श्रोत (सुर १२, २३४)।

दसण पु [दशार्ण] देश-विशेष (उप २११ टी: कुमा)।
 'कूट न [कूट] शिखर-विशेष (भावम)।
 'पुर न [पुर] नगर-विशेष (ठा १०)।
 'भह पु [भद्र] दशाणपुर का एक विष्णुवात राजा, जो अद्वितीय ब्राह्मण से भगवान् महावीर को वन्दन करने गया था और जिनसे भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (पडि)।
 'वइ पु [पति] दशाण देश का राजा (कुमा)।

दसतीण न [दे] धान्य विशेष (परए १—पत्र ३४)।

दसन्न देखो दसण (सत्त ६७ टी)।

दसा ली [दशा] १ स्थिति, अवस्था (गा २२७, २८४, प्राप्र: ११०)। २ सौ वर्ष के प्राणी की दस-दस वर्ष की अवस्था (दसनि १)। ३ सूत या ऊन का छोटा और पतला चागा (श्रीष ७२५)। ४ व जैन आगम-ग्रन्थ-विशेष (अणु)।

दसार पु [दशार्ह] १ समुद्रविजय आदि दश यादव (सम १२६, हे २, ८५, अत २, एया १, ४—पत्र ६६)। २ वासुदेव शीकण्ण (एया १, १६)। ३ बल (भावम)। ४ वासुदेव की सतति (राज 'णोउ पु [नेव] शीकण्ण (उव)।
 'पु [नाथ] शीकण्ण (पात्र)।
 'व [पति] शीकण्ण (कुमा)।

दसिया देखो दसा (सुपा ६४१)।

दसु पु [दे] शोक, दिलगिरी (दे ५, ३४)

दसुत्तरसय न [दशोत्तरशत] १ एव

दस। २ वि एक सौ दसवाँ, ११।

(पत्र ११०, ४५)।

दसुय पु [दस्यु] लुटेरा, डाकू, चोर, व

(उत्त १०, १६)।

दसेर पु [से] सूत्र-कनक (दे ५, ३३)।

दस्स देखो दस = दशय्। क दस्स

(स्वन्न ६५)।

दस्सण देखो दसण (मे २१)।

दस्सु पु [दस्यु] चोर, तस्कर (आ २७)

दह सक [दह] जलना, भस्म व

दहइ (महा)। नरमे दहिबइ (हे ४, २

दज्जइ (आचा)। बह, दहत (आ :

(शोध ५६६) । °णाह पु [°नाथ] तीनी जगत् का स्वामी, परमेश्वर (पड्) । °मडण न [°मण्डन] १ तीनी जगत् का भूषण । २ पु रावण का पट्ट-हस्ती (पञ्च ८०, ६०) ।

तेल न [तैल] तेल, तिल का विकार, स्निग्ध द्रव्य विशेष (हे २, ६८, अणु पव ४) । °केला स्त्री [°केला] मिट्टी का भाजन विशेष (राज) । °पल्ल न [°पल्य] तैल रखने का मिट्टी का भाजन-विशेष (दसा १०) । °पाइया स्त्री [°पायिका] शुद्ध जन्तु-विशेष (आवम) ।

तेल्लग न [तैलक] सुरा-विशेष (जीव ३) ।

तेल्लिअ पु [तैलिक] तेल बेचनेवाला (वव ६) ।

तेल्लोअ } देखो तेलुक्क (पि १६६, प्राप्र) ।

तेल्लोक्क } (अप) देखो तह = तथा (हे ४, तेषई ३६७, कुमा) ।

तेवड वि [त्रैपट] तिरसठ की सख्यावाला, जिसमे तिरसठ अधिक हो ऐसी सख्या: 'तिल्लि तेवडाइ पावाडुयसयाइ' (पि २६५) ।

तेवड (अप) वि [तावत्] उतना (हे ४, ४०७, कुमा) ।

तेवण्णासा स्त्री [त्रिपञ्चाशत्] त्रेपन, ५३ (प्राक् ३१) ।

तेवीसइ स्त्री [त्रतोविंशति] तेईस (प्राक् ३१) ।

तेवुत्तरी देखो ते-वत्तरी (कम्म ५, ४) ।

तेह (अप) वि [ताहस्] उसके जैसा, वैसा (हे ४, ४०२, पड्) ।

तेहिं (अप) अ वास्ते, लिए (हे ४, ४२५, कुमा) ।

तेहिय वि [त्र्यादिक] तीन दिन का (जीवस ११६) ।

तेहत्तरी देखो ते-वत्तरी (अणु १७६) ।

तो देखो तओ (आचा, कुमा) ।

तो घ [तदा] तब, उस समय (कुमा) ।

तोअय पु [दे] चातक पक्षी (दे ५, १८) ।

तोड देखो तुड (हे १, ११६, प्राप्र) ।

तोतडि स्त्री [दे] करम्ब, दही-भात की बनी हुई एक पात्र वस्तु (दे ५, ४) ।

तोक्कय वि [दे] बिना ही कारण तत्पर होने-वाला (दे ५, १८) ।

तोक्खार देखो तुक्खार, 'खुरखुरखयखोणीय-लअसंखतोक्खारलक्खजुओ' (सुर १२, ६१) ।

तोडअ न [त्रोटक] छन्द-विशेष (पिंग) ।

तोड सक [तुड्] १ तोडना, भेदन करना । २ अक. टूटना । तोडइ (हे ४, ११६) । वक्क तोडत (भवि) । सक तोडिउ (भवि), तोडित्ता (ती ७) ।

तोड पु [त्रोट] वृष्टि (उप पृ १८) ।

तोडण वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे ५, १८) ।

तोडण न [तोदन] व्यथा, पीडा-करण (राज) ।

तोडर न [दे] टोडर, माल्य-विशेष (सिरी १०२३) ।

तोडहिआ स्त्री [दे] वाद्य-विशेष (आचा २, ११) ।

तोडिअ वि [त्रोटित] तोडा हुआ (महा, सण) ।

तोडु पु [दे] शुद्ध कोट-विशेष, चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति (राज) ।

तोण पुन [तूण] शरधि, भाथा, तरकस, तूणीर (पात्र, औप, हे १, १२५, विपा १, ३) ।

तोणीर पुन [तूणीर] शरधि, भाथा (पात्र, हे १, १२४, भवि) ।

तोत्त न [तोत्र] प्रतोद, बैल को मारने या हानिने का बाँस का आयुध-विशेष, पैना, सोटा, चावुक (पात्र, दे ३, १६, सुपा २३७, सुर १४, ५१) ।

तोत्तडि [दे] देखो तौतडि (पात्र) ।

तोदग वि [तोदक] व्यथा उपजानेवाला, पीडा-कारक (उत्त २०) ।

तोमर पुंन [दे तोमर] मधपुडा, मधुमक्खी का घर या छत्ता, 'अह उड्डियाउ तोमर मुहाउ महमक्खियाउ सब्वतो' (धर्मवि १२४) ।

तोमर पुं [तोमर] १ वाण-विशेष, एक प्रकार का वाण (पणह १, १, सुर २, २८, औप) । २ न छन्द-विशेष (पिंग) ।

तोमारिअ पु [दे] १ शब्द का प्रमाज्जन करने-वाला (दे ५, १८) । २ शब्द-माज्जन (पड्) ।

तोमारिगुंडी स्त्री [दे] बह्नी-विशेष (पात्र) ।

तोमरी स्त्री [दे] बह्नी, लता (दे ५, १७) ।

तोम्हार (अप) देखो तुम्हार (पि ४३४) ।

तोय न [तोय] पानी, जल (पणह १, ३, वजा १४, दे २, ४७) । °धरा, धारा, स्त्री [°धारा] एक दिक्कुमारी देवी (इक, ठा ८) ।

°पट्ट, °पिट्ट न [°पृष्ट] पानी का उपरि-भाग (पणह १, ३, औप) ।

तोय पु [तोद्] व्यथा, पीडा (ठा ४, ४) ।

तोरण न [तोरण] १ द्वार का श्रययव-विशेष, बहिर्द्वार (गा २६२) । २ वन्दनवार, फूल या पत्तों की माला (भालर) जो उदसव मे लटकाई जाती है (औप) । °उर न [°पुर] नगर-विशेष (महा) ।

तोरविअ वि [दे] उत्तेजित (पात्र, कुप्र १६२) ।

तोरामदा स्त्री [दे] नेत्र का रोग-विशेष (महानि ३) ।

तोल देखो तुल = तोलय् । तोलइ, तोलेइ (पिंग, महा) । वक्क. तोलत (वजा १५८) । कवक्क तोल्लिज्जमाण (सुर १५, ६४) । क. तोल्लियन्व (स १६२) ।

तोल पुंन [दे] मगध-देश प्रसिद्ध पल, परि-माण-विशेष (तंडु) ।

तोलण पुं [दे] पुरुष, आदमी (दे ५, १७) ।

तोलण न [तोलन] तौल करना, तौलना, नाप करना (राज) ।

तोल्लिय वि [तोलित] तौला हुआ (महा) ।

तोल्ह न [तौलय, तौल] तौल, वजन (कुप्र १४६) ।

तोवट्ट पु [दे] १ कान का श्मशूषण-विशेष । कमल की कणिका (दे ५, २३) ।

तोस सक [तोपय] खुशी करना, सन्तुष्ट करना । तोसइ (उव) । कर्म. तोसिज्जइ (गा ५०८) ।

तोस पुं [तोष] खुशी, आनन्द, सतोष (पात्र, सुपा २७५) । °यर वि [°कर] सतोष-कारक (काल) ।

तोस न [दे] घन, बौलत (दे ५, १७) ।

तोसलि पु [तोसलिन] १ श्रम-विशेष । २ देश विशेष । ३ एक जैन आचार्य (राज) ।

दाणव पु [दानव] दैत्य, असुर, वनुज (दे १, १७७, अन्हु ४१, प्रासू ८६) ।

दाणविद पु [दानवेन्द्र] असुरो का स्वामी (राया १, ८, पचम ६२, ३६, प्रासू १०७) ।

दाणि स्त्री [दे] शुल्क, जुगी (सुपा ३६०, ५४८) ।

दाणि अ [इदानीम्] इस समय, अभी
दाणि (प्रति ३६, स्वप्न २०, हे १, २६,
दाणी ४, २७७, अभि ३७, स्वप्न ३३) ।

दाथ वि [द्वा स्थ] १ द्वार पर स्थित । २ पुं प्रतीहार, द्वारपाल, चपरासी (दे ६, ७२) ।

दादलिआ स्त्री [दे] अगुली, उगली (दे ५, ३८) ।

दापण न [दापन] दिलाणा, 'अन्हुद्वाण अजलिकरण तदेवासणदापण' (सत् २६ टी) ।

दाम न [दामन्] १ माला, सज् (परह १, ४, कुमा) । २ रज्जु, रस्ती (गा १७२, हे १, ३२) । ३ पु. वेलन्वर नागराज का एक आवास-पर्वत (राज) । ० वत वि [० वत्] मालावाला (कुमा) ।

दामद्धि पु [दामरिथ] सौधर्म देवलोक के इन्द्र के वृषभ-सैन्य का अधिपति देव (इक) ।

दामद्धि पु [दामद्धि] ऊपर देखो (ठा ५, १—पत्र ३०३) ।

दामण न [दामन] बन्धन, पशुओं का रस्ती से नियन्त्रण (पव ३८) ।

दामण स्त्री [दामनी] पशु को बाँधने की डोरी—रस्ती, पगहा (धर्मवि १४४) । स्त्री ०णी (सुज १०, ८) ।

दामणी स्त्री [दामनी] १ पशुओं को बाँधने की रस्ती (सग १६, ६) । २ भगवान् कुन्धुनाथ की मुख्य शिष्या (तित्थ) । ३ स्त्री और पुरुष का रज्जु के आकारवाला एक शुभ लक्षण (परह २, ४ टी—पत्र ८४, परह २, ४—पत्र ६८, ७६, जं २) ।

दामणा स्त्री [दे] १ प्रसव, प्रसूति । २ नयन, आँख (दे ५, ५२) ।

दामिय वि [दामित] सयमित, नियन्त्रित (सण) ।

दामिली स्त्री [द्राचिडी] द्रविड देश की लिपि में लिख एक मन्त्र-विद्या (सुम २, २) ।

दामी स्त्री [दामी] लिपि-विशेष (सम ३५) ।

दामोअर पुं [दामोदर] १ श्रीकृष्ण वामुदेव (ती ४) । २ अतीत उत्सर्पणी काल में भरत-क्षेत्र में उत्पन्न नववां जिनदेव (पव ७) ।

दायग वि [दायक] दाता, देनेवाला (उप ७२८ टी; महा, सुर २, ४४, सुपा ३७८) ।

दायण न [दान] देना, 'दायणे अ निकाए अ अन्हुद्वाणोत्ति धावरे' (सम २१); 'तवो-विहाण तह दाणदाप (? य) ए' (सत् २६) ।

दायणा स्त्री [दापना] पृष्ठ अर्थ को व्याख्या (विसे २६३२) ।

दायय देखो दायग, 'अजिअसतिपायया हुतु मे निवसुहाण दायया' (अजि ३४) ।

दायव्व देखो दा = दा ।

दायाद पु [दायाद] पैतृक संपत्ति का भागी-दार, पुत्र, सर्पिड कुटुम्बी (आचा) ।

दायार वि [दायार] याचक, प्रार्थी (कप्प) ।

दार सक [दारय्] विदारना, तोड़ना, चूगें करना । वद्ध. दारत (कुमा) ।

दार पु [दे] कटी-सूत्र, काँची (दे ५, ३८) ।

दार पुंन [दार] कलत्र, स्त्री, महिला (सम ५०, स १३७, सुर ७, २०१, प्रासू ६५), 'दन्वेण अण्णकाल गहिया वेसावि होइ परदार' (सुपा २८०) ।

दार न [द्वार] दरवाजा, निकलने का मार्ग (औप, सुपा ३६७) । ० गला स्त्री [० गला] दरवाजे का आगल (गा ३२२) । ० द्द, ० स्थ वि [० स्थ] १ द्वार पर स्थित । २ पु. दरवान, प्रतीहार (बृह १, दे २, ५२) । ० पाल, ० वाल पु [० पाल] दरवान, द्वार-रक्षक (उप ५३० टी, सुर १०, १३६, महा) । ० वालय, ० वालिय पुं [० पालक, पालिक] दरवान, प्रतीहार (पचम १७, १६, सुपा ४६६) ।

दार पुं [दारक] शिशु, बालक, बच्चा
दारग (उप पृ ३०८, सुर १५, ११६, कप्प) । देखो दारय ।

दारद्धता स्त्री [दे] पैटी, सड़क (दे ५, ३८) ।

दारय वि [दारय्] करनेवाला, विचवसक (कुम १३०) । २ देखो दारग (कप्प) ।

दारिअ वि [दारित] विदारित, फाड़ा हुआ (पाथ) ।

दारिआ स्त्री [दारिका] लकड़ी (स्वप्न १५, राया १, १६, महा) ।

दारिआ स्त्री [दे] बेरया, वारागना (दे ५, ३८) ।

दारिअ न [दारिअय] १ निर्धनता । २ दीनता (गा ६७१, महा, प्रासू १७३) । ३ भालस्य (प्रासा) ।

दारिअिय वि [दारिअित] दरिद्रता-प्राप्त, दरिद्र (पचम ५५, २५) ।

दारु न [दारु] काष्ठ, लकड़ी (सम ३६, कुप्र १०४, स्वप्न ७०) । ० गाम पु [० ग्राम] ग्राम-विशेष (पचम ३०, ६०) । ० द्दय पुन [० द्दण्डक] काष्ठ दण्ड, साधुओं का एक उपकरण (कस) । ० पन्वय पु [० पर्वत] पर्वत-विशेष (जीव ३) । ० पाय न [० पात्र] काष्ठ का बना हुआ भाजन (ठा ३, ३) ।

० पुत्तय पु [० पुत्रक] कठपुतला (अन्हु ८२) । ० मड पु [० मड] भरत-क्षेत्र के एक भावी जिन-देव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५४) । ० सकम पु [० सक्रम] काष्ठ का बना हुआ पुल, सेतु (आचा) ।

दारुअ पु [दारुक] १ श्रीकृष्ण वामुदेव का एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर उत्तम गति प्राप्त की थी (अत ३) । २ श्रीकृष्ण का एक सारथि (राया १, १६) । ३ न काष्ठ, लकड़ी (पचम २६, ६) ।

दारुअय वि [दारुअय] काष्ठ-निर्मित, लकड़ी का बना हुआ । ० पन्वय पु [० पर्वत] काष्ठ का बना हुआ मालूम पड़ता पर्वत (राय ५५) ।

दारुण वि [दारुण] १ विषम, भयकर, भोषण (राया १, २, पाथ, गडड) । २ क्रोध-युक्त, रौद्र (वव १) । ३ न कट, डुल (स ३२२) । ४ दुर्मिन्न, अकाल (उप १३६ टी) ।

दारुणी स्त्री [दारुणी] विद्यादेवी-विशेष (पचम ७, १४०) ।

दालण न [दारण] विदारण, चरदन (परह १, १) ।

दालि स्त्री [दे दालि] १ दाल, दला हुआ चना, अरहर, मूंग आदि फल (सुपा ११, सण) । २ राजि, रेखा, लकीर (औप ३२३) ।

दालिअ न [दे] नेत्र, घ्रास (दे ५, ३८) ।

गुजरात का एक नगर, जो आजकल 'खभात' नाम से प्रसिद्ध है (ती ५१)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष, खभात (सिग्घ १)। थभणया छी [स्तम्भना] स्तब्ध-करण (ठा ४, ४)। थभणिया छी [स्तम्भनिका] विद्या-विशेष (धर्मवि १२४)। थंभणी छी [स्तम्भनी] स्तम्भन करनेवाली विद्या-विशेष (खाया १, १६)। थंभय देखो थभ = स्तम्भ (कुमा)। थभिय वि [स्तम्भित] १ स्तब्ध किया हुआ, थमाया हुआ (कुप्र १४१, कुमा, कप्प, श्रौप)। २ जो स्तब्ध हुआ हो, अवष्टब्ध (स ४६४)। थक्क अक [स्था] रहना, बैठना, स्थिर होना। थक्कइ (हे ४, १६, पिग)। भवि थक्कस्सइ (पि ३०६)। थक्क अक [फक्] नीचे जाना। थक्कइ (हे ४, ८७)। थक्क अक [श्रम्] थकना, श्रान्त होना। थक्कति (पिग)। थक्क वि [स्थित] रहा हुआ (कुमा, वज्जा ३८, सुपा २३७, आरा ७७, सट्टि ६)। थक्क पु [दे] १ अवसर, प्रस्ताव, समय (दे ५, २४, वव ६, महा, विसे २०६३)। २ वि थका हुआ, श्रान्त, थक्क सन्वशरीर हियए सुल सुइसह एइ (सुर ७, १८५, ४ १६५)। थक्किअ वि [श्रान्त] थका हुआ (पिग)। थक्कव सक [स्थापय] स्थापन करना, रखना। थक्कवइ (प्राक् १२०)। थग देखो थय = स्यगय्। भवि थगइस्स (पि २२१)। थगण न [स्थगण] पिधान, ढकना, सवरण, आवरण, आच्छादन, पर्दा (दे २, ८३, ठा ४, ४)। थगयग अक [थगथगाय] षडकना, कौपना। वक्क थगथगित (महा)। थगिय वि [स्थगित] पिहित, आच्छादित, आवृत (दस ५, १, आवम)। थगिय°देवो थइअ°। °ग्गाहि पु [°ग्गाहिन्] ताम्बूल-वाहक नोकर (सुपा ३३६)।

थगया छी [दे] चञ्चु, चोंच (दे ५, २६)। थगघ सक [स्ताघ्] जल की गहराई को नापना। कर्म, थगिज्जए (पव ८१)। थगघ पु [दे] थाह, तला, पानी के नीचे की भूमि, गहराई का अन्त, सीमा (दे ५, २४)। थगघा छी [दे] ऊपर देखो (पाप्र)। थइ पुन [दे] १ ठठ, भीड़, झुएड, समूह, ग्रुथ, जल्था; 'दुइदलुरगयट्टा' (सुपा २८८), 'विहइइ लहु दुइनिदुदोघट्ट' (लहुअ ४)। २ ठाठ, ठाट, तडक-भडक, सजघण, आडम्बर (भवि)। थट्टि छी [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४)। थड पुन [दे] ठठ, ग्रुथ, समूह (भवि)। थड्ड वि [स्तब्ध] १ निश्चल। २ अभिमानी गाँवठ (सुपा ४३७, ५८२)। थड्डिअ वि [स्तम्भित] १ स्तब्ध किया हुआ। २ स्तब्ध, निश्चल। ३ न. गुरु-वन्दन का एक दोष, अकड कर गुरु को किया जाता प्रणाम (गुमा २३)। थण अक [स्तन्] १ गरजना। २ आक्रन्द करना, चिल्लाना। ३ आक्रोश करना। ४ जोर से नोसास लेना। वक्क थणत (गा २६०)। थण पुं [स्तन] थन, कुच, पयोधर, बूची (आचा, कुमा, काप्र १६१)। °जीवि वि [°जीविन्] स्तन-पान पर निर्भरवाला बालक (आ १४)। °वई छी [°वती] बडे स्तनवाली (गउड)। °विसारि वि [°विसारिन्] स्तन पर फैलनेवाला (गउड)। °सुत्त न [°सूत्र] उर-सूत्र (दे)। °हर पु [°भर] स्तन का भार या बोझ (हे १, १८६)। थणघय पु [स्तनघय] स्तन-पान करनेवाला बालक, छोटा बच्चा, 'निययं थण घयंत थणघयं हदि पिच्छति' (सुर १०, ३७, अञ्चु ६३)। थणण न [स्तनन] १ गर्जन, गरजना (सुअ १, ५, २)। २ आक्रन्द, चिल्लाहट (सुअ १, ५, १)। ३ आक्रोश, अभिशाप (राज)। ४ आवाजवाला नोसास (सुअ १, २, ३)। थणय पु [स्तनक] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६)।

थणलोलुअ पु [स्तनलोलुप] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ७)। थणिअ पु [स्तनित] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६, २६)। थणिय न [स्तनित] १ मेघ का गर्जन (वजा १२, दे ५, २७)। २ आक्रन्द, चिल्लाहट (सम १५३)। ३ पुं भवनपति देवो की एक जाति (श्रौप, परह १, ४)। °कुमार पु [°कुमार] भवनपति देवो की एक जाति (ठा १, १)। थणिल सक [चोरय्] चुराना, चोरी करना। थणिलइ (प्राक् ७२)। थणिल वि [स्तनवत्] स्तनवाला (कप्प)। थणुअ पुं [स्तनक] छोटा स्तन (गउड)। थणु देखो थाणु (गा ४२२)। थत्तिअ न [दे] विग्राम (दे ५, २६)। थड्ड देखो थड्ड (सम ५१, गा ३०४, वज्जा १०)। थन्न न [स्तन्य] स्तन का दूध। °जीवि वि [°जीविन्] छोटा बच्चा (सुपा ६१६)। थप्प सक [स्थापय्] रखना, थप्पी करना। थप्पइ (सिदि ८६७)। थप्पण न [स्थापन] न्यास, न्यसन (कुअ ११७)। थप्पिअ वि [स्थापित] रक्खा हुआ, न्यस्त (पिग)। थन्भ अक [स्तम्] अहंकार करना। थन्भइ (सुअ १, १३, १०)। थन्भर पुं [दे] अयोध्या नागरी के समीप का एक ब्रह्म-वह या फील (ती ११)। थमिअ वि [दे] विस्मृत (दे ५, २५)। थय सक [स्थगय्] आच्छादन करना, आवृत करना, ढकना। थएइ, थएसु (पि ३०६, गा ६०५)। भवि थइस्स (गा ३१४)। हेक्क थइइ (गा ३६४)। थय वि [स्तुत्] न्यास, भरपूर (से १, १)। थय पु [स्तव] स्तुति, स्तवन, गुण-कीर्तन (अजि ३६, स ४४)। थयण न [स्तवन] ऊपर देखो, 'थुइयण-वदणमसएणिए एगट्टियाणिए एयाइ' (आव २)।

दिअलिअ वि [दे] मूखं, अज्ञानी (दे ५, ३६)।
दिअली ली [दे] ल्यूणा, खम्भा, लूँटी
(पात्र)।

दिअस पुन [दिवस] दिन, दिवस (गठड,
पि २६४)। °कर पु [°कर] सूर्य, रवि (से
१, ५३)। °नाह पु [°नाथ] सूर्य, सूरज
(पउम १४, ८३)। °यर देखो °कर (पात्र)।
देखो दिवस।

दिअसिअ न [दे] १ सदा-भोजन (दे ५,
४०)। २ अनुदिन, प्रतिदिन (दे ५, ४०,
पात्र)।

दिअह देखो दिअस (प्राप्र, पात्र)।
दिअहुत्त न [दे] पूर्वाह्निका भोजन, दुपहर
का भोजन (दे ५, ४०)।

दिआ अ [दिवा] दिन, दिवस (पात्र, गा
६६, सम १६, पउम २६, २६)। °णिस
न [°निश] दिन-रात, सदा (पिंग)। °राअ
न [°रात्र] दिन-रात, सर्वदा (सुपा ३१८)।
देखो दिवा।

दिआहम पु [दे] भाव पक्षी (दे ५, ३६)।
दिआइ देखो दुआइ (पात्र)।

दिइ ली [इति] मशक, चमडे का जल-पात्र
(अतु ५, कुप्र १४६)।

दिउण वि [द्विगुण] हुना, दुगुना (पि २६८)।
दित देखो दा = दा।

दिक्काण पुं [द्रेष्काण] मेघ आदि लग्नी का
दसवाँ हिस्सा (राज)।

दिकख सक [दीक्ष्] दीक्षा देना, प्रव्रज्या
देना, सत्यास देना, शिष्य करना। दिक्खे
(उव)। वक्क दिक्खत (सुपा ५२६)।

दिकख देखो देक्ख। दिक्खइ (पि ६६)।

दिकखा ली [दीक्षा] १ प्रव्रज्या देना, दीक्षण
(शोध ७ भा)। २ प्रव्रज्या, सत्यास (धर्म २)।

दिक्खिअ वि [दीक्षित] जिसको प्रव्रज्या दी
गई हो वह, जो साधु बनाया गया हो वह
(उव)।

दिगल्ला देखो दिगिल्ला (पि ७४)।

दिगवर देखो दिअंबर (इक, आचम)।

दिगिअ ली [जिघत्सा] बुझुसा, शूल (सम
४०, विसे २५६४, उत २, आनु)।

दिगिअन्न सक [जिघत्स्] खाने को चाहना।
वक्क दिगिअन्न (आचा, पि ५५५)।

दिगु पु [द्विगु] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास
(अणु, पि २६८)।

दिगु देखो दिगु (अणु १४७)।

दिघ देखो दीह (हिं २, ६१, प्राप्र, सकि
१७, स्वप्न ६८, विसे ३४६७)। °णगूल,
लगूल वि [°लाङ्गूल] १ लम्बी पूँछवाला
२ पुं वानर (षट्)।

दिग्घिआ ली [दीघिका] वापी, सोदीवाला
कूप-विशेष (स्वप्न ५६, निरु १३६)।

दिन्हा ली [दिरता] देने की इच्छा (कुप्र
२६६)।

दिज देखो दिअ = द्विज (कुमा)।

दिज्ज वि [देय] १ देने योग्य। २ जो दिया
जा सके। ३ पुन कर-विशेष (विपा १, १)।

दिज्जत } देखो दा = दा।
दिज्जमाण }

दिट्ठ वि [दृष्ट] कथित, प्रतिपादित, कहा
हुआ (उप ७६८ टी)।

दिट्ठ वि [दृष्ट] १ देखा हुआ, विलोकित (ठा
४, ४, स्वप्न २८, प्रासू १११)। २ अभिमत
(अणु)। ३ ज्ञाव, प्रमाण से जाना हुआ (उप
८८२, बृह १)। ४ न दर्शन, विलोकन
(ठा २, १)। °पादि वि [°पाठिन्] चरक-

सुश्रुतादि का जानकार (शोध ७४)।
°लाभिय पु [°लाभिक] दृष्ट वस्तु को ही
ग्रहण करनेवाला जैन साधु (परह २, १)।

दिट्ठ न [दृष्ट] प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण
से जानने योग्य वस्तु (धर्म स ५१८, ५१९)।
°साहम्मय न [साधर्म्यवत्] अनुमान का
एक भेद (अणु २१२)।

दिट्ठत पुं [दृष्टान्त] उदाहरण, निदर्शन
(ठा ४, ४, महा)।

दिट्ठतिअ वि [द्वार्षान्तिक] १ जिस पर
उदाहरण दिया गया हो वह (विसे १००५
टी)। २ न अभिनय-विशेष (ठा ४, ४—
पत्र २८५)।

दिट्ठिअ वि [द्वार्षान्तिक] १ जिस पर
उदाहरण दिया गया हो वह (विसे १००५
टी)। २ न अभिनय-विशेष (ठा ४, ४—
पत्र २८५)।

दिट्ठिअ देखो दक्ख = हर।

दिट्ठि ली [दृष्टि] १ नेत्र, आँख, नजर (ठा
३, १, प्रासू १६, कुमा)। २ दर्शन, मत
(परण १६, ठा ४, १)। ३ दर्शन, अच-
लोकन, निरीक्षण (अणु)। ४ बुद्धि, मति
(सम २५, उत २)। ५ विवेक, विचार

(सम २५, उत २)। ५ विवेक, विचार

(सूत्र २, २)। °कीव पुं [°कलीव] नपुसक-
विशेष (निचू ४)। °जुद्ध न [°युद्ध]
युद्ध-विशेष, आँख की स्थिरता की लड़ाई
(पउम ४, ४४)। °बंध पु [°बन्ध] नजर
बाँधना (उप ७२८ टी)। °म, °मत वि
[°मत] प्रयास दृष्टिवाला, सम्पग-दर्शी
(सूत्र १, ४, १, आचा)। °राय पु [°राग]
१ दर्शन-राग, अपने धर्म पर अनुराग (धर्म
२)। २ चाक्षुष-स्नेह (अभि ७४)। °ह वि
[°मत] प्रयास दृष्टिवाला (पउम २८,
२२)। °वाय पुं [°पात] १ नजर डालना
(से १०, ५)। २ बारहवाँ जैन अग्र भय (ठा
१०—पत्र ४६१)। °वाय पु [°वाद्]
बारहवाँ जैन अग्र-ग्रन्थ (ठा १०, सम १)।
°विपरिआसिआ ली [°विपर्यासिका,
°सिता] मति भ्रम (सम २५)। °विस पु
[°विप] जिसकी दृष्टि में विप हो ऐसा सर्प
(से ४, ५०)। °सूल न [°शूल] नेत्र का
रोग-विशेष (णाय्या १, १३—पत्र १८१)।

दिट्ठि ली [दृष्टि] तारा, मित्रा आदि योग-दृष्टि
(सिरि ६२३)।

दिट्ठिआ अ [दृष्ट्या] इन अर्थों का सूचक
अव्यय—१ मगल। २ हर्ष, आनन्द, खुशी।
३ भाग्य से (हे २, १०४, स्वप्न १६, अभि
६५, कुप्र ६५)।

दिट्ठिआ ली [दृष्टिका, °जा] १ लिंग्या-
विशेष—दर्शन के लिए गमन। २ दर्शन में
कर्म का उदय होना (ठा २, १—पत्र ४०)।

दिट्ठीआ ली [दृष्टीया] ऊपर देखो (नव १८)।

दिट्ठीवाओवएसिआ ली [दृष्टिवाओ-
पदेशिनी] सज्ञा-विशेष (द ३३)।

दिट्ठेल्लय वि [दृष्ट] देना हुआ, निरीक्षित
(आचम)।

दिट्ठे } देखो दृढ (नाट—मालती १७, ते
दिट्ठे } १, १४, स्वप्न २०५, प्रासू ६२)।

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

दिण पुन [दिन] दिवस (सुपा ५६, द २७,
जी ३५, प्रासू ६५)। °इद पुं [°इन्द्र]
सूर्य, रवि (सण)। °कय पु [°कन्]
सूर्य, रवि (राज)। °कर पुं [°कर] सूर्य,
सूरज (सुपा ३१२)। °नाह पु [°नाथ]
सूर्य, रवि (महा)। °वधु पु [°वन्धु]
सूर्य, रवि (पुष्क ३७)। °मणि पु [°मणि]

थाली ली [स्थाली] पाक पात्र, हांडी, बटलोही (ठा ३, १, सुपा ४८७)। °पाग वि [°पाक] हांडी मे पकाया हुआ (ठा ३, १)।

थाव सक [स्थापय्] १ स्थिर करना। २ रखना। थावए (उत्त २, ३२)।

थावच्चा ली [स्थापत्या] द्वारका-निवासी एक गृहस्थ ली (गाया १, ५)। °पुत्त पु [°पुत्र] स्थापत्या का पुत्र, एक जेन मुनि (गाया १, ५, अत)।

थावण न [स्थापन] न्यास, आधान (स २१३)।

थावय पु [स्थापक] समर्थ हेतु, स्वपक्ष-साधक हेतु (ठा ४, ३—पत्र २५४)।

थावर वि [स्थावर] १ स्थिर रहनेवाला। २ पु एकेन्द्रिय प्राणी, केवल स्पर्शोन्द्रियवाला—शुश्रूषी, पानी और वनस्पति आदि का जीव (ठा ३, २, जी २)। ३ एक विशेष नाम, एक नीकर का नाम (उप २६७ टी)। °काय पु [°काय] एकेन्द्रिय जीव (ठा २, १)। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, स्थावरत्व-प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (पंच ३, सम ६७)।

थासग [दे] कुदाल (आव० टिप्पण—पत्र ५६, १)।

थासग पु [स्थासक] १ दर्पण, आदर्श, थासय } शीशा (विपा १, २—पत्र २४)। २ दर्पण के आकार का पात्र विशेष (भोप, अनु, गाया १, १ टी)। ३ अश्व का आभरण-विशेष (राज)।

थाह पु [दे] १ स्नान, जगह। २ वि अस्ताप, गभीर जल-वाला। ३ विस्तीर्ण। ४ दीर्घ, लम्बा (दे ५, ३०)।

थाह पु [स्थाघ] थाह, तला, गहराई का अन्त, सीमा (प्राग्, विसे १३३२, गाया १, ६, १४, से ८, ४०)।

थाहिअ पु [दे] आलाप, स्वर विशेष (सुपा १६)।

थिअ वि [स्थित] रहा हुआ (स २७०, विसे १०३५, भवि)।

थिइ देतो ठिइ (से २, १८, गजड)।

थिदिणी ली [दे] छन्द-विशेष, विदिण्छन्द-रासेण' (सम्मत १४१)।

थिप अक [वृप्] तुप्त होना, सतुष्ट होना। थिपइ (प्राप्र)। भवि थिपिंहति (प्राप्र ८, २२ टी)। सक्र थिपिअ (प्राप्र ८, २२ टी)।

थिग्गल न [दे] १ भित्ति-द्वार, भीत मे किया हुआ दरवाजा (दस ५, १, १५)। २ फटे-फुटे वस्त्र मे किया जाता सवान, वस्त्र आदि के खडित भाग मे लगाई जाती जोड़ (परए १७, विसे १४३६ टी)।

थिग्गन् पुन [दे] १ छिद्र। २ गिरने के बाद दुस्त (ठीक) किया हुआ गृह-भाग (आचा २, १, ६, २)।

थिज्ज देखो थेज्ज = स्पेयें (सवोव ४६)।

थिण्ण वि [स्थान] कठिन, जमा हुआ (हे १, ७४, २, ६६, से २, ३०)। देखो थिण।

थिण्ण वि [दे] १ स्नेह-रहित दयावाला। २ अभिमानी, गर्व-युक्त (दे ४, ३०)।

थिन्न वि [दे] गर्वित, अभिमानी (प्राप्र)।

थिप्प देखो थिप। थिप्पइ (हे ४, १३८)।

थिप्प अक [वि + गल्] गल जाना। थिप्पइ (हे ४, १७५)।

थिचुरु पु [स्तिचुरु] कन्द-विशेष (सुख ३६, ६६)।

थिम सक [स्तिम्] आद्रं करना, गीला करना। हेक्क थिमिअ (राज)।

थिमिअ वि [दे स्तिमित] स्थिर, निश्चल (दे ५, २७, से २, ४३, ८, ६१, गाया १, १, विपा १, १, परह १, ४, २, ५, शोप, सुज १, सुअ १, ३, ४)। २ मन्थर, धीमा (प्राप्र)।

थिमिअ पु [स्तिमित] राजा अन्धकवृष्णि के एक पुत्र का नाम (अत ३)।

थिम्म सक [स्तिम्] १ आद्रं करना। अक. आद्रं होना। थिम्मइ (प्राक् १२०)।

थिर वि [स्थिर] १ निश्चल, निष्कम्प (विपा १, १, सम ११६, गाया १, ८)। २ निष्पन्न, सपन्न (दस ७, ३५)। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, जिसके उदय से वन्त, हठी आदि अवयवों की स्थिरता होती है (कम्म १, ४६, सम ६७)। °वल्लिया ली [°वल्लिका] जन्तु-विशेष, सर्प की एक जाति (जीव २)।

थिरणाम वि [दे] चल-चित्त, चंचल-मनस्क (दे ५, २७)।

थिरणोस वि [दे] अस्थिर, चंचल (पड्)।

थिरसीस वि [दे] १ निर्भीक, निडर। २ निर्भर। ३ जिसने सिर पर कवच बाँधा हो वह (दे ५, ३१)।

थिरिम पु ली [स्थेय्यं] स्थिरता (मरा)।

थिरीकरण न [स्थिरीकरण] स्थिर करना, दृढ़ करना, जमाना (आ ६, रयण ६६)।

थिल्ल वि [दे] शुभ (चउपन्न० विवुधानद)।

थिल्लि ली [दे] यान-विशेष—१ दो घोड़े की बग्गी। २ दो खच्चर आदि से बाल यान (सूअ २, २, ६२, गाया १, १ टी—पत्र ४३, शोप)।

थिविथिव अक [थिविथिवाय्] 'थिव-थिव' आवाज करना। वक्क थिविथिवत (विपा १, ७)।

थिवुग पु [स्तिचुरु] जल-विन्दु (विसे थिवुय ७०४, ७०५, सम १४६)। °सक्रम पु [°सक्रम] कर्म-प्रकृतियों का आपस मे सक्रमण-विशेष (पचा ५)।

थीहु पु ली [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६६)।

थीहु पु [स्तिभु] वनस्पति-विशेष (राज)।

थी ली [ली] ली, महिला, नारी, औरत (हे २, १३०, कुमा, प्रासू ६५)।

थीण देखो थिण्ण (हे १, ७४, दे १, ६१, कुमा, प्राप्र)। °गिद्धि ली [°गृद्धि] निकट निद्रा-विशेष (ठा ६, विसे २३४, उत्त ३३, ५)। °द्धि ली [°द्धि] अघम निद्रा-विशेष (सम १५)। °द्धिय वि [°द्धिक] स्थानाद्धि निद्रा वाला (विसे २३५)।

थु अ तिरस्कार-सूचक अन्वय (प्रति ८१)।

थुअ वि [स्तुत] जिसकी स्तुति की गई हो वह, प्रशंसित (दे ८, २७, घण ५०, अजि १८)।

थुअ देखो थुण। थुअइ (प्राक् ६७)।

थुइ ली [रतुति] स्तव, गुण-कीर्तन (कुमा, चैत्य १, सुर १०, १०३)।

थुइवाय पु [स्तुतिवाद] प्रशंसा-वचन (वेइय ७४४)।

न [मासुप] देव और मनुष्य सबकी हकी-
कती का जिसमे वर्णन हो ऐसी कथा-वस्तु
(स २)।

दिव्व न [दिव्य] १ तेल, तीन दिन का
लगातार उपवास (सवोष ५८)। २ वि देव-
सम्बन्धी, 'तिरिया मणुया य दिव्वगा, उव-
सग्गा तिविहाहियासिया' (सूत्र १, २, २,
१५)।

दिव्व देखो दइय (सुपा १६१)।

दिव्व देखो देव, 'अमोह दिव्वदसएणित्' (कुप्र
११२)।

देव्याग पु [दिव्याक] सर्प की एक जाति
(परण १)।

देव्यासा स्त्री [दे] चामुण्डा, देवी-विशेष
(दे ५, ३६)।

दिस सक [दिश] १ कहना। २ प्रतिपादन
करना। दिसइ (भवि)। कवक, दिस्समाण
(राज)।

दिशा पु [दिश] एक देव-विमान (देवेन्द्र
३१)।

दिस्स वि [दिश्य] दिशा मे उत्पन्न (से ६,
५०)।

दिसआ स्त्री [दृपद्] पत्थर, पापाण (पइ)।

दिस्साइ देखो दिसा-दि (सुज्ज ५ टी—पत्र
७८)।

देसा } स्त्री [दिश] १ दिशा, पूर्व आदि
दिसि } दस दिशाएँ (गउड, प्रासू ११३,
हसी) महा, सुपा २६७, परह १, ४,
८ ३१, भग)। २ प्रौढा स्त्री (से १, १६)।

अक न [चक्र] दिशाओं का समूह (गा
५३०)। कुमरी स्त्री [कुमारी] देवी-
विशेष (सुपा ४०)। कुमार पु [कुमार]
नवमपति देवों की एक जाति (परण २,
प्रोष)। कुमारी देखो कुमरी (महा, सुपा
४०)। गज पु [गज] दिग्-हस्ती (से
२, ३ १०, ४६)। गइद् पु [गजेन्द्र]
दिग्-हस्ती (पि १३६)। चक्र देखो अक
(सुपा ५२३, महा)। चक्रवाल न [चक्र-
वाल] १ दिशाओं का समूह। २ तप-विशेष
(हर ७, ३)। चर पु [चर] देशाटन
(भग १५)। जत्ता देखो

यत्ता (उप ७६८ टी)। जत्तिर देखो
यत्तिय (उवा)। डाह पु [दाह]
दिशाओं मे होनेवाला एक तरह का प्रकाश,
जिसमे नीचे अन्वकार और ऊपर प्रकाश
दीखता है, यह भावी उपद्रवों का सूचक है
(भग ३, ७)। गुवाय पु [अनुपात]
दिशा का अनुसरण (परण ३)। दति पु
[दन्तिन्] दिग्-हस्ती (सुपा ४८)। दाह
देखो डाह (भग ३, ७)। दि पु [आदि]
मेरु पर्वत (सुज्ज ५)। देवया स्त्री [देवता]
दिशा की अधिष्ठात्री देवी (रमा)। पोक्खि
पु [प्रोक्षिन्] एक प्रकार का वानप्रस्थ
(श्रौप)। भाअ पु [भाग] दिग्भाग
(भग, श्रौप, कप्प, विपा १, १)। मत्त न
[मात्र] अत्यल्प, सक्षिप्त (उप ७४६)।
मोह पु [मोह] दिशा का भ्रम (निद्ध
१६)। यत्ता स्त्री [यात्रा] देशाटन, मुसा-
फिरी (स १६५)। यत्तिय वि [यात्रिक]
दिशाओं मे फिरनेवाला (उवा)। लोय पु
[आलोक] दिशा का प्रकाश (विपा १,
६)। वह पु [पथ] दिशा-रूप मार्ग
(पउम २, १००)। वाल पु [पाल]
दिकपाल, दिशा का अधिपति (स ३६६)।
वेरमण न [विरमण] जैन गृहस्थ को
पालने का एक नियम—दिशा मे जाने-आने
का परिमाण करना (धम्म २)। व्वय न
[व्रत] देखो वेरमण (श्रौप)। सोत्थिय
पु [स्वस्तिक] स्वस्तिक-विशेष (श्रौप)।
सोवत्थिय पु [सौवस्तिक] १ स्वस्तिक-
विशेष, दक्षिणावर्त स्वस्तिक (परह १, ४)।
२ न. एक देव-विमान (सम ३८)। ३ रुचक
पर्वत का एक शिखर (ठा ८)। हत्थि पु
[हस्तिन्] दिग्गज, दिशाओं मे स्थित ऐश्वर्य
आदि आठ हस्ती। हत्थिकूड पुन [हस्ति-
कूट] दिशा मे स्थित हस्ती के आकारवाला
शिखर-विशेष, वे आठ है—पद्मोत्तर, नील-
वन्त, सुहस्ती, अञ्जनगिरि, कुमुद, पलाय,
अवतस और रोचनगिरि (ज ४)।

दिसेभ पु [दिग्भि] दिग्गज, दिग्-हस्ती
(गउड)।

दिस्स वि [दृश्य] देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान
का विषय (धम्मस ४२८)।

दिस्स
दिस्स
दिस्समाण

देखो दक्ख = दृश्य।

दिस्समाण देखो दिस।

दिस्सा देखो दक्ख = दृश्य।

दिहा अ [द्विधा] दो प्रकार (हे १, ६७)।

दिहि स्त्री [धृति] धैर्य, धीरज (हे २, १३१-
कुमा)। म वि [मत्] धैर्य-शाली-
धीर (कुमा)।

दीअ देखो दीव = दीप (गा १३५, ५४७)।

दीअअ देखो दीवय (गा १३५)।

दीअमाण देखो दा = दा।

दीण वि [दीन] १ रक, गरीब (प्रासू २३)।

२ दु खित, दु स्य (शाया १, १)। ३ हीन,
न्यून (ठा ४, २)। ४ शोक ग्रस्त, शोकानुर
(विपा १, २, भग)।

दीणार पु [दीनार] सोने का एक सिक्का
(कप्प, उप पृ ६४, ५६७ टी)।

दीपक (अप) पुन [दीपक] छन्द विशेष
दीपक (पिग)।

दीव देखो दिव = दिव्। वक्क, 'अकरोहि कुणु-
लेहि दीवय (सूत्र १, २, २, २३)।

दीव सक [दीपय] १ दीपाना, शोमाना।

२ जलाना। ३ तेज करना। ४ प्रकट करना।

५ निवेदन करना। दीवइ (श्रौष ४३४)।

दीवेइ (महा)। वक्क दीवयत (कप्प)।

सक दीवेत्ता (श्रौष ४३४, कस)। क.

दीवणज (कप्प)।

दीव पु [दीप] १ प्रदीप, दिया, चिराग, आलोक
(चार १६, शाया १, १)। २ कल्पवृक्ष की
एक जाति, प्रदीप का कार्य करनेवाला
कल्पवृक्ष (सम १७)। चपय न [चम्पय]
दिया का ढकना, दीप-पिघान (भग ८, ६)।

ली स्त्री [ली] १ दीप-पत्ति। २

दीवाली, पर्व-विशेष, कार्तिक वदी अमावस्य

(दे ३, ४३)। ली स्त्री [ली]

पूर्वोक्त ही अर्थ (ती १६)।

दीव पु [दीप] १ जिनके चारों ओर जल

भरा हो ऐसा भूमि भाग (सम ५१, ठा १०)।

२ भवमपति देवों की एक जाति, दीपकुमार

देव (परह १, ४, श्रौष)। ३ व्याघ्र (जीव १)।

थोडेरुय—दंड

थोडेरुय देखो घाडेरुय (उप ७२८ टी) ।

थोणा देखो थूणा (हे १, १२५) ।

थोत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तव (हे २, ४५, सुपा २६६) ।

थोचु, देखो थुण ।

थोभ } पु [स्तोभ, 'क'] 'व', 'वे' आदि
थोभय } निरर्थक अर्थ का प्रयोग, 'उच-वडकारा हति य अकारणा थोमया हति (बृह
१, विते ६६६ टी) ।थोर देखो थुल (हे १, २५५, २, ६६, पउम
२, १६, से १०, ४२) ।थोर वि [दे] क्रम से विस्तीर्ण अथ च गोल
(दे ५, ३०, वज्रा ३६) ।

थोल पु [दे] वल का एक देश (दे ५, ३०) ।

थोव } वि [स्तोक] १ अल्प, थोडा (हे
थोवाग } २, १२५, उच, आ २७, श्रोथ
२५६, विते ३०३०) । २ पु. समय का एक
परिमाण (ठा २, ३, भग) ।

थोह न [दे] वल, पराक्रम (दे ५, ३०) ।

थोहर पुं ली [दे] वनस्पति-विशेष, थूहर का
पेठ, सेहूड (सुपा २०३) । ली. 'री' (उप
१०३१ टी, जो १०, धर्म ३) ।॥ इअ तिरिपाइअसहमहणवन्मि थयाराइसहसकलयो
चव्वीसइमो तरगो समत्तो ॥

द

द पु [दे] दन्त स्थानीय व्यञ्जन-वर्ण विशेष
(प्राप, प्रामा) ।दअच्छर पुं [दे] ग्राम-स्वामी, गाँव का
अधिपति (दे ५, ३६) ।दअरी ली [दे] सुरा, मदिरा, दारू (दे ५,
३४) ।दइ ली [हति] मशक, चर्म-निर्मित जल-पात्र
(श्रोथ ३८) ।

दइअ वि [दे] रक्षित (दे ५, ३५) ।

दइअ पुं ली [हति का] मशक, चर्म-निर्मित
जल-पात्र, चमडे का बना हुआ वह धैला
जिसमे पानी भरकर साते हैं, 'दइएण
वसिष्णा वा' (पिंड ४२) । ली. 'आ' (अणु
१५२, पिंडमा १४) ।दइअ वि [दयित] १ प्रिय, प्रेम-पात्र,
'जम्भो वरकामिणीदइअ' (सुर १, १८३) ।
२ अमीष्ट, चाञ्छित, 'अम्हाण मखोदइय
दसणमवि डुल्लह मन्ने' (सुर ३, २३८) ।
३ पु पति, स्वामी, भर्ता (प्राभ, कुमा) ।
'धम वि [तम] १ अत्यन्त प्रिय । २ पु.
पति, भर्ता (पउम ७७, ६२) ।दइआ ली [दयिता] ली, प्रिया, पत्नी
(कुमा, महा; सुर ४, १२६) ।दइअ पु [दैत्य] दानव, असुर (हे १, १५१,
कुमा; प्राभ) । 'गुरु पु [गुरु] शुक,
शुक्राचार्य (प्राभ) ।दइअ न [दैत्य] दीनता, गरीबपन, गरीबी
(हे १, १५१) ।दइअ पुं न [दैव] देव, भाग्य, अदृष्ट, प्रारब्ध,
पूर्व कृतकर्म (हे १, १५३, कुमा; महा;
पउम २८, ६०), 'अहवा कुविओ दइवो
पुरिसं कि हणइ लउडेण' (सुर ८, ३४) ।
'ल, 'णु पु [इ] ज्योतिषी, ज्योति-
शास्त्र का विद्वान् (हे २, ८३, षड्) । देखो
दैव = दैव ।दइअ वय न [दैवत] देव, देवता (परह २, १,
हे १, १५१, कुमा) ।दइअ वि [दैविक] देव-स्वल्की, दिव्य,
उत्तम (स ५०६) ।दइअ देखो दइव (हे १, १५३, २, ६६,
कुमा; पउम ६३, ४) ।दइअ (शौ) अ [द्राग] शीघ्र, जल्दी
(प्राह ६५) ।दइअ } न [दकोदर] रोग-विशेष,
दओदर } जलोदर, पानी से पेट का फूलना
(शाया १, १३, विपा १, १) ।दओमास पुं [दकावभास] लवण-समुद्र
में स्थित वेलघर-नागराज का एक आवास-
पर्वत (इक) ।

दठा देखो दाढा (नाट—मालती ५६) ।

दठि वि [दंष्ट्रिन्] बडे दाँतपाला, हिंसक
जन्तु (नाट—वेणी २४) ।दंड सक [दण्डय्] सजा करना, निग्रह
करना । कवक दंडिज्जत (प्रास ६६) ।दड पु [दण्ड] १ जीव-हिंसा, प्राण-नाश
(सम १, शाया १, १, ठा १) । २ अपराधी
को अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक
दण्ड, सजा; निग्रह, दमन (ठा ३, ३, प्रास
६३, हे १, १२७) । ३ लाठी, यष्टि (उप
५३० टी, प्रास ७५) । ४ दुःख-जनक,
परिताप-जनक (आचा) । ५ मन, वचन और
शरीर का अशुभ व्यापार (उत्त १६, दं
४६) । ६ छन्द-विशेष (पिंग) । ७ एक जैन
उपासक का नाम (सथा ६१) । ८ पुन.
परिमाण-विशेष, १६२ अंगुल का एक नाप
(इक) । ९ आना (ठा ५, ३) । १० पुं न,
सैन्य, लश्कर, फौज (परह १:४, ठा ५, ३) ।
'अल पु [कल] छन्द-विशेष (पिंग) । 'जुअ
न [युद्ध] यष्टि-युद्ध (आचा) । 'गाथग पुं

दु, देखो तु (दे २, ६४) ।
 दु, देखो दुब = दु । कर्म = दुयप (विसे २८) ।
 वि ब. [द्वि] दो, सख्या-विशेषवाला (हे १, ६४, कम्म १, उवा) ।
 पु [दु] २ वृक्ष, पेड़, गाछ (उर ५) ।
 २ सत्ता, सामान्य (विसे २८) ।
 दु अ [द्विस्] दो बार, दो वफा (सुर १६, १५) ।
 दु अ [दुर] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
 १ अभाव । २ दुष्टता, खराबी । ३ मुश्किल, कठिनाई । ४ निन्दा (हे २, २१७, प्रासू १५८, सुपा १४३, राया १, १, उवा) ।
 दु अ न [द्वित] अभिनय-विशेष (राय ५३) ।
 दु अ न [द्विक] युग्म, युगल, जोड़ा (से ६२१) ।
 दु अ वि [द्वित] १ पीड़ित, हैरान किया हुआ (उप ३२० टी) । १ वेग-युक्त । ३ क्रिचि-विशेष, जल्दी (सुर १०, १०२, अणु) । °विल-विशेष न [विलम्बित] १ छन्द-विशेष । २ अभिनय-विशेष (राय) ।
 दु अ नखर पुं [दे] षण्ड, नपुंसक (दे ५, ७७) ।
 दु अ नखर वि [द्वयक्षर] १ अज्ञान, मूर्ख, मयज्ञ (उप १२६ टी) । २ पुत्री, वास, नीकर (पिंड) । स्त्री °रिया (भावम) ।
 दु अ गु अ पु [द्वयणुक] दो परमाणुओं का संघन (विसे २१६२) ।
 दु अ र वि [दुष्कर] मुश्किल, कठिनाई से जो किया जा सके वह (प्राक् २६) ।
 दु अ र न [दुकूल] १ वस्त्र, कपड़ा । २ महिन-युक्त सूक्ष्मवस्त्र (हे १, ११६, प्राप्र) । देखो दुकूल ।
 दु अ र पु [द्विजाति] ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । तीनों वर्ण (हे १, ६४, २, ७६) ।
 दु अ र च वि [दुराख्येय] दु ख से कहने योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६) ।
 दु अ र न [द्वार] दरवाजा, प्रवेश-भाग (हे १, ७६) ।
 दु अ र वि [द्वाराध] जिसका आराधन किया हो सके वह (पराह १, ४) ।
 दु अ र वि [द्वारिका] १ छोटा द्वार । २ अथ द्वार, भपद्वार (राया १, २) ।

दु आवत्त न [द्व्यावर्त] दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम १४७) ।
 दु अ अ [द्वितीय] दूसरा (हे १, १०१, २०६, कुमा, कप्पू, रयण ४) ।
 दु अ अ (अप) वि [द्विचतुर] दो-चार, दो या चार (प्राक् १२०) ।
 दु अ अ } सक [जुगुप्स्] निन्दा करना, दु अ अ } धृणा करना । दु अ अ, दु अ अ (हे ४, ४) ।
 दु अ अ वि [द्विगुण] द्वा, दुगुना (दे ५, ५५, हे १, ६४) । अर वि [तर] दूने में भी विशेष, अत्यन्त (से ११, ४७) ।
 दु अ अ वि [द्विगुणित] ऊपर देखो (कुमा) ।
 दु अ अ देखो दु अ अ (प्राप्र. गा ५६६, पद्) ।
 दु अ अ } पु [दुन्दुभ] १ सपं की एक जाति दु अ अ } (दे ७, ५१) । २ ज्योतिष्क-विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८) ।
 दु अ अ देखो दु अ अ (भग ६, ३३) ।
 दु अ अ न [दे] गले की आवाज (दे ५, ४५, षट्) ।
 दु अ अ मिणी स्त्री [दे] रूपवाली स्त्री (दे ५, ४५) ।
 दु अ अ हि पुत्री [दुन्दुभि] वाद्य-विशेष (कप्प, सुर ३, ६८, गउड, कुप्र ११८) ।
 दु अ अ वती स्त्री [दे] सरित, नदी (दे ५, ४८) ।
 दु अ अ ड देखो दु अ अ ड (द्र ४७) ।
 दु अ अ पप देखो दु अ अ पप (पत्र) ।
 दु अ अ म्म न [दुष्कर्मन्] पाप, निन्दित काज या काम (आ २७, भवि) ।
 दु अ अ ल पु [दुष्काल] अकाल, दुभिक्ष (सिदि ४१) ।
 दु अ अ क्रिय देखो दु अ अ (भवि) ।
 दु अ अ ल पु [दुकूल] १ वस्त्र-विशेष । २ वि दुकूल वस्त्र को छाल से बना हुआ वस्त्र आदि (राया १, १ टी—पत्र ४३) ।
 दु अ अ दिर वि [दुष्कान्दिन्] अत्यन्त धारण्य करनेवाला (भवि) ।
 दु अ अ ड न [दुष्कृत] पाप कर्म, निन्द्य आचरण (सम १२५, हे १, २०६, पडि) ।
 दु अ अ डि वि [दुष्कृतिन्, °क] दुष्कृत दुष्कृति करनेवाला, पापी (सम १, ५, १, वि २१६) ।

दु अ कप्प पु [दुष्कल्प] शिथिल साधु का आचरण, पतित साधु का धाचार (पचभा) ।
 दु अ कम्म न [दुष्कर्मन्] दुष्ट कर्म, असदाचरण (सुपा २८, १२०, ५००) ।
 दु अ कय न [दुष्कृत] पाप कर्म (पराह १, १, पि ४६) ।
 दु अ कर वि [दुष्कर] जो दु ख से किया जा सके, मुश्किल, कष्ट-साध्य (हे ४, ४१४, पंचा १३) । आरअ वि [कार] मुश्किल कार्य को करनेवाला (गा १७६, हे २, १०४) । करण न [कण] कठिन कार्य को करना (द्र ५७) । कारि वि [कारिन्] देखो आरअ (उप १६०) ।
 दु अ कर न [दे] माघ मास में रात्रि के चारों प्रहर में किया जाता स्नान (दे ५, ४२) ।
 दु अ करकरण न [दुष्करकरण] पाँच दिन का लगातार उपवास (सबीध ५८) ।
 दु अ कह वि [दे] अद्यचिवाला, अरोचनी (सुर १, ३६, जय २७) ।
 दु अ काल पु [दुष्काल] अकाल, दुभिक्ष (साध ३०) ।
 दु अ क्रिय देखो दु अ क्रिय (भवि) ।
 दु अ कुक्कणिया स्त्री [दे] पीकदान, पीकदात्री (दे ५, ४८) ।
 दु अ कुल न [दुष्कुल] निन्दित कुल (वर्म १) ।
 दु अ कुह वि [दे] १ असहन, असहिष्णु, चिह-चिडा । २ रुचि-रहित (दे ५, ४४) ।
 दु अ क्त पु न [दु अ] १ अनुत्त, कट, पीडा, क्लेश, मन का क्षोभ (हे १, ३३), 'दुत्ता सारीरा माणसा व ससारं' (सया १०१, आचा, भग, स्वप्न ५१, ५८, प्रासू ६६, १५२, १८२) । २ क्रिचि मृष्ट से, मुश्किल से, कठिनाई से (वमु) । ३ वि दु अ क्त, दु अ क्त, दु अ क्त (से ३३) । स्त्री. °क्या (भग) । °कर वि [°कर] दु ख जनक (सुपा १६५) । °क्त वि [°क्त] दु ख में पीड़ित (सुपा १६१, स ६४२, प्रासू १४४) । °त्तगवेसण न [°त्तगवेसण] दु ख से पीड़ित को सेवा, आत्तं शुभ्रपा (पचा १६) । °मज्जिय वि [अर्जितदु अ] जिसने दु ख उपार्जन किया हो वह (उत्त ६) । °राह वि [°राध्य] दु ख से आराधन-योग्य (वज्ज)

दतिक्क न [दे] चावल का आटा (बृह १) ।
दतिक्का न [दे] मांस (धर्मसं ६६१) ।
दतिया स्त्री [दन्तिका] एक वृक्ष-विशेष, बड़ी
सतावर (परएण १—पत्र ३२) ।
दंती स्त्री [दन्ती] स्वनाम ख्यात वृक्ष (परएण
१—पत्र ३६) ।

दतुक्खलियि पू [दन्तोल्खलिक] तापस-
विशेष, जो दाँतो से ही जीहि या घान वगैरह
को निस्तुप कर खाते है (निर १, ३) ।
दतुर वि [दन्तुर] उन्नत दाँतवाला, जिसके
दाँत उभड़-खाबड़ हो । २ ऊँचा-नीचा स्थान,
विषम स्थान (दे २, ७७) । ३ आगे आया
हुआ, आगे निकल आया हुआ (कप्पू) ।
दतुरियि वि [दन्तुरित] ऊपर देखो, 'विचित्त-
पासायपतिवतुरिय' (उप १०३? टी, सुपा
२००) ।

दद पु [द्वन्द्व] १ व्याकरण-प्रसिद्ध उभयपद-
प्रधान समास (अणु) । २ न परस्पर-विच्छेद
शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि युग्म । ३ कलह,
क्लेश । ४ युद्ध, संग्राम (सुपा १४७, कुमा) ।
दपइ पुं व [दम्पति] स्त्री पुरुष युगल—जोडा,
पति-पत्नी, 'ते दपईउ तह तह धम्ममि
समुज्जमा निच्च' (सिरि २४८) ।

दम् पु [दम्भ] १ माया, कपट (हे १,
१२७) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ ठगाई,
वक्चना (पव २) ।

दभग वि [दम्भक] दम्भी, पाखण्डी; ठग, घुत्त,
'दभगो ति निम्भच्छिओ' (सुख २, १७) ।

दभोलि पु [दम्भोलि] वज्र (कुप्र २७०) ।

दस सक [दर्शय] दिखलाना, बतलाना ।
दसइ (हे ४, ३२, महा) । वक्क दसत, दसित,
दसअत (भग, सुपा ६२, अमि १८४) । सक
दसिज्जत (सुर २, १६६) । सक
दसिअ (नाट) । क दसियव्व (सुपा
४५४) ।

दस सक [दश] काटना, दाँत से काटना ।
दसइ (नाट—साहित्य ७३) । दसतु (आचा) ।
वक्क दसमाण (आचा) ।

दस पु [दश] १ डाँस, बड़ा मच्छह (भग,
आचा) । २ दत्त-सत्त, सर्प या अन्य किसी
विषैले कीड़े से काटा हुआ घाव (हे १,
२६० टि) ।

दंस पु [दर्श] सम्यक्त्व, तत्त्व-श्रद्धा (आवम) ।
दसग वि [दर्शक] दिखलानेवाला (स ४८१) ।
दसण पुन [दर्शन] १ भ्रवलोकन, निरीक्षण
(पुफ १२४, स्वप्न २६) । २ चक्षु, नेत्र,
आँख (से १, १७) । ३ सम्यक्त्व, तत्त्व-
श्रद्धा (ठा १, ५ ३) । ४ सामान्य ज्ञान,
'जं सामन्तगहण दसणमभ' (सम्म ५५) ।
५ मत, धर्म । ६ शास्त्र-विशेष (ठा ७, ८,
पचा १२) । ७ मोह न [मोह] तत्त्व-श्रद्धा
का प्रतिबन्धक कर्म-विशेष (कम्म १, १४) ।
मोहणिज्ज न [मोहनीय] कर्म-विशेष
(ठा २, ४, भग) । ८ वरण न [वरण]
कर्म-विशेष, सानान्य-ज्ञान का आवरणक कर्म
(ठा ६) । ९ वरणिज्ज न [वरणीय]
पूर्वोक्त ही अर्थ (सम १५) । देखो दरिसण ।
दसण न [दर्शन] दाँत से काटना (से १,
१७) ।

दसणि वि [दर्शनिन्] १ किसी धर्म का
अनुयायी (सुपा ४६६) । २ दार्शनिक, दर्शन-
शास्त्र का जानकार (कुप्र २६, कुम्मा २१) ।
३ तत्त्व-श्रद्धालु (अणु) ।

दसणिआ स्त्री [दर्शनिना] दर्शन, भ्रवलोकन,
'चदसूरदंसणिया' (श्रीप, णामा १, १) ।

दंसणिज्ज वि [दर्शनीय] देखने योग्य,
दसणीअ दर्शन-योग्य (सूत्र २, ७, अमि
६८, महा) ।

दसाव सक [दर्शय] दिखलाना । दसावेइ
(प्राक्क ७१) ।

दसावण न [दर्शन] दिखाना (उप २११ टी) ।

दसाविअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ
(सुपा ३८६) ।

दसि वि [दर्शिन] देखनेवाला (आचा, कुप्र
४१, द २३) ।

दसिअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ (पात्र) ।

दसिअ
दसित
दसिज्जत
दसियव्व
देखो दस = दर्शय ।

दक वि [दष्ट] जो दाँत से काटा गया हो वह
(पइ) ।

दक्ख सक [दृश] देखना, भ्रवलोकन करना ।
दक्खाभि, दक्खिमो (अमि ११६, विक्र

२७) । प्रयो. दक्खावइ (पि ५५४) ।
कर्म दीसइ (उव) । कवक्क दिस्समाण,
दीसंत, दीसमाण (आव ५, गा ७३,
नाट—चैत ७१) । सक दक्खु, दट्ठु,
दट्ठुआण, दट्ठुं, दट्ठुग, दट्ठुणं,
दिस्स, दिस्स, दिस्सा (कप्प, षड्, कुमा,
महा, पि ५८५, सूत्र १, ३, २, १, पि
३३४) । हेक्क दट्ठुं (कुमा) । क्क. दट्ठव्व,
दिट्ठव्व (महा, उत्तर १०७) ।

दक्ख सक [दर्शय] दिखलाना, 'सोवि हु
दक्खइ वहुकोउयमततताइ (सुपा २३२) ।

दक्ख वि [दक्ष] १ निपुण, चतुर, होशियार
(कप्प, सुपा २८६, आ २८) । २ पु. भूता-
नन्द नामक इन्द्र के पदाति-सैन्य का अधिपति
देव (ठा ५, १, इक) । ३ भगवान् मुनिसुव्रत-
स्वामी का एक पौत्र (पत्तम २१, २७) ।

दक्ख देखो दक्खा (पत्तम ५३, ७६, कुमा) ।
दक्खज्ज पु [दे] गृध्र, गीब, पक्षि-विशेष
(दे ५, ३४) ।

दक्खण न [दर्शन] १ भ्रवलोकन, निरीक्षण ।
२ वि देखनेवाला, निरीक्षक (कुमा) ।

दक्खण सक [दर्शय] दिखलाना, बतलाना ।
दक्खवइ (हे ४, ३२) ।

दक्खविअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ
(पात्र, कुमा) ।

दक्खा स्त्री [द्राक्षा] १ बल्ली-विशेष, दाख
या अणूर का पेड़ । २ फल-विशेष, दाख, अणूर
(कप्प, सुपा २६७, ५३६) ।

दक्खायणी स्त्री [दाक्षायणी] गौरी, शिव-
पत्नी (पात्र) ।

दक्खिण वि [दक्षिण] १ दक्षिण दिशा मे
स्थिति (सुर ३, १८, गउड) । २ निपुण,
चतुर (प्रामा) । ३ हितकर, अनुकूल । ४
अपसव्य, वामेतर, दाहिना (कुमा, श्रीप) ।
पच्छिमा स्त्री [पश्चिमा] दक्षिण और
पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत कोण
(आवम) । पुठ्या स्त्री [पूर्वा] अग्नि-कोण
(चंद १) । देखो दाहिण ।

दक्खिणत्त वि [दाक्षिणात्य] दक्षिण दिशा
मे उत्पन्न (राज) ।

दक्खिण्णा स्त्री [दक्षिणा] १ दक्षिण दिशा
(जो १) । २ दक्षिण देश (कप्पू) । ३ धर्म-

दुग्गम्म' (सुर ६, १३५) । २ न कठिनाई, मुश्किल (ठा ५ १) ।
 दुग्गय वि [दुर्गत] १ दरिद्र, धन-हीन (ठा ३, ३ गा १८) । २ दु खी, विपत्ति प्रस्त (पात्र, ठा ४, १—पत्र २०२) ।
 दुग्गग न [दुर्गन] १ दरिद्रता । २ दु ख, 'दोहत्तो जिणएव्व दोहिच्च दुग्गय लहइ' (संनोध ४) ।
 दुग्गह वि [दुर्गह] जिसका ग्रहण दु ख से हो सके वह (उप पृ ३६०) ।
 दुग्गा स्त्री [दुर्गा] १ पार्वती, गौरी, शिव-पत्नी (पात्र, सुपा १४८) । २ देवी-विशेष (चड) । ३ पक्षि-विशेष (आ १६) ।
 दुग्गाई स्त्री [दुर्गादेवी] १ पार्वती, दुग्गाएवी, शिव-पत्नी, गौरी । २ देवी-दुग्गादेई विशेष (षड, हे १ २७०, दुग्गावी / कुमा) । 'रमण पु [रमण] महादेव, शिव (पड) ।
 दुग्गास न [दुर्गास] दुर्भिक्ष अकाल (पिड-भा ३३) ।
 दुग्गिअ वि [दुर्गाह, दुर्गह] जिसका ग्रहण दु ख से हो सके वह (सुपा २५५) ।
 दुग्गूढ वि [दुर्गूढ] अत्यन्त गुप्त, अति प्रचञ्चल (वव ७) ।
 दुग्गेअ देखो दुग्गिअ (से १, ३) ।
 दुग्गवट्ट वि [दुर्घट्ट] जिसका आच्छादन दु ख से हो सके वह, 'पारदसोउणहत्तएहवेअएदुग्ग-दृघट्टिया' (पएह १, ३—पत्र ५४) ।
 दुग्गध वि [दुर्घट] जो दु ख से हो सके वह, कष्ट-साध्य (सुपा ६३, ३६५) ।
 दुग्गध वि [दुर्घट] असगत (धर्मवि २७०) ।
 दुग्गधिअ वि [दुर्घटित] १ दु ख से सयुक्त । २ खराब रीति से बना हुआ, 'दुग्गधिअमच-अस्स व दणो एणेपाम्पइणेण' (गा ६१०) ।
 दुग्गघ न [दुर्घह] दुष्ट घर (भवि) ।
 दुग्गघास पु [दुर्गास] दुर्भिक्ष, अकाल (वह ३) ।
 दुग्गघट्ट } पु [दे] हस्ती, हाथी, करी (दे ५, दुग्गघट्ट) ४४, पड, भवि) ।
 दुग्गघण पु [दुग्गघण] एक प्रकार का मुद्गर, भोगरी, भुंगरा (पएह १, ३—पत्र ४४) ।

दुग्गक न [दुग्गक] गाडी, शकट (शोध ३८३ भा) । 'वइ पु [पति] गाडी का अविपत्ति या मालिक (शोध ३८३ भा) ।
 दुग्गिण देखो दुग्गिण (पि ३४०, श्रौप) ।
 दुग्ग न [दुर्गत्य] दूत-कर्म, समाचार पहुँचाने का कार्य (पात्र) ।
 दुग्ग देखो दोक्ष = द्वितीय, द्विस (कप्प) ।
 दुग्गडिअ वि [दे] १ दुर्ललित । दुविदग्ग, दु शिक्षित (दे ५, ५५, पात्र) ।
 दुग्गवाल वि [दे] १ कलह-निरत, झगडाखोर । २ दुश्चरित, दुष्ट आचरणवाला । ३ परह-भाषी, कडा बोलनेवाला (दे ५, ५४) ।
 दुग्गज्ज } वि [दुस्त्यज] दु ख से त्यागने दुग्गय } योग्य (कुमा, उप ७६८ टी) ।
 दुग्गचरिअ } वि [दुश्चर] १ जिसमे दु ख से दुग्गचरिअ } जाया जाय वह (आचा) । २ दु ख से जो किया जाय वह (उप ६४८ टी, पत्रम २२, २०) । 'लाढ पु [लाढ] ऐसा ग्राम या देश जिसमें दु ख से जाया जा सके (आचा) ।
 दुग्गचरिअ न [दुश्चरित] १ खराब आचरण, दुष्ट वर्तन (पत्रम ३८, १२, उप पृ १११) । २ वि दुराचारी (दे ५, ४५) ।
 दुग्गचार वि [दुश्चार] दुराचारी (भवि) ।
 दुग्गचारि वि [दुश्चारिन्] दुराचारी, दुष्ट आचरणवाला (स ५०३) । स्त्री णी (महा) ।
 दुग्गचित्थि वि [दुश्चिन्तित] १ दुष्ट चिन्तित (पत्रम ११८, ६७) । २ न खराब चिन्तन (पडि) ।
 दुग्गिगिअ वि [दुश्चिन्तित] जिसका प्रती-कार मुश्किल से हो वह (स ७६१) ।
 दुग्गिण न [दुश्चिण] १ दुष्ट आचरण, दुश्चरित । २ दुष्ट कर्म—हिमा आदि । ३ वि दुष्ट सचित, एकत्रित की हुई दुष्ट वस्तु (विपा १, १, एाया १, १६) ।
 दुग्गिणिय न [दुश्चिणिय] खराब चेष्टा, गारी-रिक्त दुष्ट आचरण (पडि, सुर ६, २३२) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] बार्ह प्रकार का, 'मूल दार पड्डाएण, आहारो नायणं निही । दुग्गिणियवि धम्मस्स, सम्मत परिक्खिणिय' (आ ६) ।

दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] दुस्त्यज, दु ख से छोड़ने योग्य, 'दुग्गिणिय जीवियासा ज' (धर्मवि १२४) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] जिसका छेदन दु खसे हो सके वह (पत्रम ३१, ५६) ।
 दुग्गिणिय देखो दुग्गिणिय (धर्म २) ।
 दुग्गिणिय पु [दुश्चिणिय] ज्योतिष्क देव-विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३) ।
 दुग्गिणिय देखो दुग्गिणिय (महा) ।
 दुग्गिणिय पु [दुश्चिणिय] १ सभ, गाँव । २ दुर्जन, खल पुरुष (सट्टि ६३, कुमा) ।
 दुग्गिणिय देखो दुग्गिणिय (राज) ।
 दुग्गिणिय पु [दुश्चिणिय] पल, दुष्ट मनुष्य (प्राप्त २०, ४०; कुमा) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] जो कष्ट से जीता जा सके (उप १०३१ टी, सुर १२, १३८, सुपा २६) ।
 दुग्गिणिय न [दे] व्यसन, कष्ट, दु ख, उपद्रव (दे ५, ४४, से १२, ६३, पात्र) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] दु ख से निकलने योग्य (से १२, ६३) ।
 दुग्गिणिय न [दुश्चिणिय] दुष्ट गमन, कुत्सित गति (आचा) ।
 दुग्गिणिय पु [दुश्चिणिय] एक प्राचीन जैनमुनि (कप्प) ।
 दुग्गिणिय न [दुश्चिणिय] आजीविका का भय (विसे ३४५२) ।
 दुग्गिणिय देखो दुग्गिणिय (वजा १५०) ।
 दुग्गिणिय न [दुश्चिणिय] दु ख से जीतने योग्य (सुपा २४८, महा) ।
 दुग्गिणिय पु [दुश्चिणिय] धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र (ठा ४, २) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] दोहने योग्य (दे १, ७) ।
 दुग्गिणिय न [दुश्चिणिय] दुष्ट चिन्तन (धर्म २) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] जिसके विषय में दुष्ट चिन्तन किया गया हो वह (धर्म २) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] जिसकी सेवा कष्ट से हो सके ऐसा (आचा) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] जिसका नाश कष्ट-साध्य हो वह (आचा) ।
 दुग्गिणिय वि [दुश्चिणिय] दु ख से भाँव (आचा) ।

मे तीर्थकर-नामकर्म उपार्जन करने वाला एक मनुष्य (ठा ६—पत्र ४५५)। २ भरत-क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का नाम (सम १५४)।

दढ़गालि ली [दे] बल-विशेष, घोया हुआ सदश बद्ध (पत्र ८४, दसनि १, ४६ टी) देखो दाढ़गालि।

दढ़िअ वि [दढ़ित] दढ़ किया हुआ (कुमा)।

दणु } पु [दनुज] दैत्य, दानव (हे १, दणुअ } २६७, कुमा, षड्)। इद, एद पु [इन्द्र] १ दानवो का अधिपति (गउड, से १, २)। २ रावण, लंकापति (पउम ६६, १०)। ३ वइ पु [पति] देखो इद (पउम १, १, ७२, ६० सुपा ४५)।

दत्त वि [दत्त] १ दिया हुआ, दान किया हुआ, वित्तिय (हे १, ४६)। २ न्यस्त, स्थापित (ज १)। ३ पु स्व नाम-ख्यात एक श्रेष्ठिभूज (उप ५६२, ७६८ टी)। ४ भरत-वर्ष के एक भावी कुलकर पुरुष (सम १५३)। ५ चतुर्थ बलदेव के पूर्व-जन्म का नाम (सम १५३)। ६ भरत क्षेत्र में उत्पन्न एक अर्ध-चक्रवर्ती राजा, एक वासुदेव (सम ६३)। ७ भरत-क्षेत्र में अतीत उत्सर्पिणी काल में उत्पन्न एक जिन-देव (पत्र ७)। ८ एक जैनमुनि (आक)। ९ मृग-विशेष (विपा १, ७)। १० एक जैन आचार्य (कुप्र ६)। ११ न दान, उत्सर्ग (उत्त १)।

दत्त न [दात्र] दाँती, धास काटने का हँसिया (हे १, १४)।

दत्ति ली [दत्ति] एक बार में जितना दान दिया जाय वह, अविच्छिन्न रूप से जितनी भिक्षा दी जाय वह (ठा ५, १, पचा १८)।

दत्तिय पुली [दत्तिफा] ऊपर देखो, 'सखो वत्तियत्त' (वव ६)।

दत्तिय पु [दत्तिरु] वाणु पूर्ण चर्म (राज)।

दत्तिया ली [दात्रिका] १ छोटी दाँती, धास काटने का शस्त्र-विशेष (राज)। २ देनेवाली ली, दान करनेवाली ली (चार २)।

दत्वर पु [दे] हस्त-शाटक, कर-शाटक (दे ५, ३४)।

दटत देखो दा।

दहर पुं [दे, दहर] कुलुप आदि के मुँह पर बाँधा जाता कपडा (पिड ३४७, ३५६, राय ६८, १००)।

दहर वि [दे दहर] १ घना, प्रचुर, अत्यन्त, 'गोसीससरसरतत्तचदणुदहरदिएणपचगुलितला' (सम १३७)। २ पुं चपेटा, हस्त-तल का आघात (सम १३७, श्रौप, शाया १, ८)। ३ आघात, प्रहार, 'पायदहरण कपयतेव मेदणितल' (शाया १, १)। ४ वचनाटोप (परह १, ३—पत्र ४४)। ५ सोपान-बीधी, सीढी (सम १३७)। ६ वाद्य-विशेष (ज २)।

दहरिगा देखो दहरिया (राय ४६)।

दहरिया ली [दे दहरिका] १ प्रहार, आघात (शाया १, १६)। २ वाद्य-विशेष (राय)।

ददुद पु [ददु] दाद, छुद्र कुष्ठ-रोग (भग ७, ६)।

ददुदुर पु [ददुर] प्रहार, आघात (धर्मवि ८५)।

ददुदुर पु [ददुर] १ भेक, भेदक, बेंग (सुर १०, १८७, प्रासू ४५)। २ चमड़े से अवनद्ध मुँहवाला कलश (परह २, ५)। ३ देव-विशेष (शाया १, १३)। ४ राहु, ग्रह-विशेष (सुज्ज १६)। ५ पर्वत-विशेष (शाया १, १६)। ६ वाद्य-विशेष (दे ७, ६१, गउड)। ७ न ददुर देव का सिंहासन (शाया १, १३)। ८ खडिसय न [वर्तंसक] देव-विशेष, सौधर्म देवलोक का एक विमान (शाया १, १३)।

ददुदुरी ली [ददुरी] ली-भेदक, भेकी (शाया १, १३)।

ददुदुल वि [ददुमत्त] दाद-रोगवाला (सिदि ११६)।

दधि देखो दहि (सम ७७, पि ३७६)।

दद्ध देखो दडुड (सुर २, ११२, पि २२२)।

दप्प पु [दर्प] १ अहकार, अभिमान, गर्व (प्रासू १३२)। २ बल, पराक्रम, जोर (से ४, ३)। ३ घृष्टता, डिडाई (भग १२, ५)। ४ अरुचि से काम का आसेवन (निदु १)।

दप्पण पु [दर्पण] १ काच, शीशा, आदर्श (शाया १, १, प्रासू १६१)। २ वि. दर्प-जनक (परह २, ४)।

दप्पणिल्ल वि [दर्पणीय] बल-जनक, पुष्टि-कारक (शाया १, १, परण १७, श्रौप, कप्प)।

दप्पि वि [दर्पिन्] अभिमानी, गर्विष्ठ (कप्प)। दप्पिअ वि [दर्पिक] दर्प-जनित (उवर १३१)।

दप्पिअ वि [दर्पित] अभिमानी, गर्वित (सुर ७, २००, परह १, ४)।

दप्पिदु वि [दर्पिदु] अत्यन्त अहकारी (सुपा २२)।

दपुल्ल वि [दर्पल्ल] अहकारवाला (हे २, १५६, षड्)।

दढभ पु [दर्भ] लृण विशेष, डाम, काया, कुशा (हे १, २१७)। १ पुष्क पु [पुष्प] साँप की एक जाति (परह १, १—पत्र ८)।

दढभायण } न [दाभयान, दाभर्यायण]
दढिभयायण } चित्रा-नक्षत्र का गोत्र (इक, सुज १०)।

दढिभय न [दाभिक] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६ टी)।

दम सक [दमय] निग्रह करना, दमन करना, रोकना। दमेइ (स २८६)। कर्म. दम्मइ (उव)। कवक्क दम्मत्त (उव)। सक्क दमिऊण (कुप्र ३६३)। क्क दमियव्व, दम्म, दमेयव्व (काल, आचा २, ४, २, उव)।

दम पु [दम] १ दमन, निग्रह। २ इन्द्रिय-निग्रह, वाद्य वृत्ति का निरोध (परह २, ४, एदि)। ३ घोस पु [वोष] वेदि देश के एक राजा का नाम (शाया १, १६)। ४ दत्त पु [दन्त] १ हस्तिशीर्षक नगर के एक राजा का नाम (उप ६४८ टी)। २ एक जैन मुनि (विसे २७६६)। ३ वर पुं [धर] एक जैन मुनि का नाम (पउम २०, १६३)।

दमग देखो दमय (शाया १, १६, सुपा ३८५, वव ३, निदु १५, वृह १, उव)।

दमग वि [दमक] दमन करनेवाला (निदु ६)।

दमण देखो दमणक (राय ३७, १२१)।

दमण न [दमन] १ निग्रह, दान्ति। २ वश में करना, काबू में करना, 'पच्चियियदमणपर' (आप ४०)। ३ उपताप, पीडा (परह १,

दुद्धोअहि } पुं [दुग्धोदधि] समुद्र-विशेष,
दुद्धोदहि } जिसका पानी दूध की तरह
स्वाच्छि है, क्षीरसमुद्र (गा ४७५, उप २११
टी)।

दुद्धोलणी बी [दे] गो-विशेष, जिसको एक
बार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा सके
ऐसी गाय, कामधेनु (दे ५, ४६)।

दुग्धा देखो दुहा (अभि १६१)।

दुग्निमित्त देखो दुग्णिमित्त (आ २७)।

दुग्धय पु [दुर्नय] १ दुष्ट नीति, कुनीति । २
अनेक धर्मवाली वस्तु में किसी एक ही
धर्म को मानकर अन्य धर्म का प्रतिवाद करने-
वाला पक्ष (सम्म १५) । ३ वि दुष्ट नीति,
अन्याय-कारी (उप ७६८ टी) । ४ 'कारि वि
'कारिन्' अन्याय करनेवाला (सुपा ३४६) ।

दुग्धिक्रम देखो दोनिक्रम (भग ७, ६ टी—
पत्र ३०७)।

दुग्धिगह वि [दुर्निग्रह] जिसका नियम दु ख
से हो सके वह, अनिवार्य (उप पृ १५३)।

दुग्धिवोह वि [दुर्निबोध] १ दु ख से जानने
योग्य । २ दुर्लभ (सूत्र १, १५, २५)।

दुग्धिमित्त देखो दुग्णिमित्त (आ २७)।

दुग्धिय न [दुर्नीति] दुष्ट कर्म, दुष्कृत, 'वधति
वेदति य दुग्धियाणि' (सूत्र १, ७, ४)।

दुग्धियत्य वि [दे] वित का भेषवाला, निन्द-
नीय बेष को धारण करनेवाला, केवल जपन
पर ही बख-पहिना हुआ, 'लोए वि कुससग्गी-
पिय जएण दुग्धियत्यमद्धवसए निदइ' (उव)।

दुग्धिरिक्ख वि [दुर्निरीक्ष्य] जो कठिनाई से
देखा जा सके वह (कप्प, भवि)।

दुग्धिवार वि [दुर्निवार] रोकने के लिए
अशक्य, जिसका निवारण मुश्किल से हो
सके वह (सुपा १२३, महा)।

दुग्धिवारणीअ वि [दुर्निवारणीय, दुर्निवार]
ऊपर देखो (स ३४३, ७४१)।

दुग्धिसण्ण वि [दुर्निपण्ण] छराव रीति से
बैठा हुआ (ठा ५, २—पत्र ३१२)।

दुप देखो दिअ=द्विप (राज)।

दुपएसम वि [द्विप्रदेश] १ दो अवयववाला ।
२ पृ द्वयस्य (उत्त १)।

दुपएसिय वि [द्विप्रदेशिक] दो प्रदेशवाला
(भग ५, ७)।

दुपक्ख पु [दुष्पक्ष] दुष्ट पक्ष (सूत्र १, ३,
३)।

दुपक्ख न [द्विपक्ष] १ दो पक्ष (सूत्र १, २,
३) । २ वि दो पक्षवाला (सूत्र १, १२, ५)।

दुपडिग्गह न [द्विप्रतिग्रह] दृष्टिवाद का
एक सूत्र (सम १५७)।

दुपडोआर वि [द्विप्रदावतार] दो स्थानों में
जिसका समावेश हो सके वह (ठा २, १)।

दुपडोआर वि [द्विप्रत्यवतार] ऊपर देखो
(ठा २, १)।

दुणमज्जिय देखो दुणमज्जिय (सुपा ६२०)।

दुपय वि [द्विपद] १ दो पैरवाला । २ पुं
मनुष्य (णायया १, ८, सुपा ४०६)। ३ न
गाड़ी, शकट (शोध २०५ भा)।

दुपय पु [द्वुपद] कापित्थपुर का एक राजा
(णायया १, १६)।

दुपरिस्सय वि [दुष्परिस्सय] दुस्सय, दु ख
से छोड़ने योग्य (उप ७६८ टी, रयण ३४)।

दुपरिस्सयणीय वि [दुष्परिस्सयनीय,
दुष्परिस्सयज] ऊपर देखो (काल)।

दुपस्स देखो दुप्पस्स (ठा ५, १—पत्र
२६६)।

दुपुत्त पु [दुष्पुत्र] कुपुत्र, कपूत (पउम २६,
२३)।

दुपेच्छ वि [दुष्प्रेक्ष] दुर्दर्श, अदर्शनीय
(भवि)।

दुप्पइ पुं [दुष्पति] दुष्ट स्वामी (भवि)।

दुप्पउत्त वि [दुष्प्रयुक्त] १ दुष्प्रयोग करने-
वाला (ठा २, १—पत्र ३६) । २ जिसका
दुष्प्रयोग किया गया हो वह (भग ३, १)।

दुप्पउल्लिय } वि [दुष्प्रचलित] ठीक-ठीक
दुप्पउल्ल } नहीं पका हुआ, अधपका (उव,
पत्ता १)।

दुप्पओग पुं [दुष्प्रयोग] दुष्प्रयोग (उत्त ४)।

दुप्पओगि वि [दुष्प्रयोगिन्] दुष्प्रयोग
करनेवाला (पएह १, १—पत्र ७)।

दुप्पफ वि [दुष्पक्व] देखो दुप्पटल्ल (सुपा
४७२)।

दुप्पकराल वि [दुष्प्रक्षाल] जिसका प्रसा-
वन कष्टसाध्य हो वह (सुपा ६०८)।

दुप्पच्चप्पेक्खिय वि [दुष्प्रत्युत्प्रेक्षित] ठीक-
ठीक नहीं देखा हुआ (पव ६)।

दुप्पजीवि वि [दुष्प्रजीविन्] दु ख से जीने-
वाला (उसू १)।

दुप्पडिक्कत वि [दुष्प्रतिकान्त] जिसका
प्रायश्चित ठीक-ठीक न किया गया हो वह
(विपा १, १)।

दुप्पडिगार वि [दुष्प्रतिगार] जिसका प्रतीकार
दु ख से किया जा सके (वृह ३)।

दुप्पडिपूर वि [दुष्प्रतिपूर] पूरने के लिए
अशक्य (तदु)।

दुप्पडिणाणंद वि [दुष्प्रत्यानन्द] १ जो
किसी तरह सतुष्ट न किया जा सके । २ अति
कष्ट से तोषणीय (विपा १, १—पत्र ११,
ठा ४, ३)।

दुप्पडियार वि [दुष्प्रतिकार] जिसका प्रती-
कार दु ख से हो सके वह (ठा ३, १—पत्र
११७, ११६, स १८४, उव)।

दुप्पडिल्लेह वि [दुष्प्रतिल्लेह] जो ठीक-ठीक
न देखा जा सके वह (पव ८४)।

दुप्पडिल्लेहण न [दुष्प्रतिल्लेखन] ठीक-ठीक
नहीं देखना (भाव ४)।

दुप्पडिल्लेहिय वि [दुष्प्रतिल्लेखित] ठीक से
नहीं देखा हुआ (सुपा ६१७)।

दुप्पडिवूह वि [दुष्प्रनिवृह] १ बढ़ाने को
अशक्य । २ पालने को अशक्य (भाचा)।

दुप्पडिवूहण वि [दुष्प्रतिवृहण] ऊपर
देखो (भाचा)।

दुप्पणिहाण न [दुष्प्रणिधान] दुष्प्रयोग,
अशुभ प्रयोग, दुष्प्रयोग (ठा ३, १, सुपा
५४०)।

दुप्पणिहिय वि [दुष्प्रणिहित] दुष्प्रयुक्त,
जिसका दुष्प्रयोग किया गया हो वह (सुपा
५५८)।

दुप्पणीहाण देखो दुप्पणिहाण, 'कयजानद
धोवि दुप्पणीहाण' (सुपा ५५३)।

दुप्पणील्लिय वि [दुष्प्रणोद्य] दुस्सन्, झोले
को अयोग्य (मम १, ३, १)।

दुप्पण्णनणज्ज वि [दुष्प्रमापनीर] पट्ट
से प्रवोचनीय (भाचा २, ३, १)।

दुप्पतर नि [दुष्प्रतर] दुस्तर (सूत्र १,
५, १)।

दल अक [दल्] १ विकसना । २ फटना, खरिडत होना, द्विधा होना, 'अहिंसश्रक्रि-रणणितरवचु निग्र दलइ कमलवण' (गा ४६५), 'कुडय दलइ' (कुमा) । वकृ दलत (से १, ५८) ।

दल सक [दलय्] चूर्ण करना, टुकड़े-टुकड़े करना, विदारना । वकृ 'निम्मूल दलमाणो सयलतरसत्तुसिन्नवल' (सुपा ८५) । कवकृ दल्लिजंत (से ६, ६२) । सकृ दल्लिऊण (कुमा) ।

दल न [दल] १ सैन्य, लश्कर, फौज (कुमा) । २ पत्र पत्ता, पक्षडी या पँखुडी, 'तूहवल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाएकमलवलो' (हेका ५१, गा १, १८०, २५७, ३६६, ५६२, ५६१, सुपा ६३८) । ३ धन, सम्पत्ति । ४ समूह, समुदाय, गरोह (सुपा ६३८) । ५ खएड, भाग, अंश (से ६, ६२) । दलण न [दलन] १ पीसना, चूर्णन (सुपा १४, ६१६) । २ वि चूर्ण करनेवाला (सुपा २३४, ४६७, कुप्र १३२, ३८३) ।

दलमाण देखो दल = दा ।

दलमाण देखो दल = दलय् ।

दलमल देखो दरमल । वकृ दलमलत(भवि) । दलय देखो दल = दा । दलयइ (श्रौप) । भवि दलइसति (श्रौप) । वकृ दलयमाण (खाया १, १—पत्र ३७, ठा ३, १—पत्र ११७) । सकृ दलइत्ता (श्रौप) ।

दलय सक [दापय्] दिलाना दलयइ (कम्प) ।

दलवट्ट देखो दरमल । दलवट्टइ (भवि) ।

दलवट्टिय देखो दलमलिय (भवि) ।

दलाव सक [दापय्] दिलाना । दलावेइ (वि ५५२) । वकृ दलावेमाण (ठा ४, २) ।

दलिअ वि [दलित] १ विकसित, खिला हुआ (से १२, १) । २ पीसा हुआ (पात्र), 'दलिअनपचालितडुलववलिभि अकामु राईसु' (गा ६६१) । ३ विचारित, खरिडत (३, १, १५६, सुर ४, १५२) ।

दलिअ न [दलिक] १ चीज, वस्तु, द्रव्य (श्रौष ५५), 'जह जोगम्मि वि दलिए सबम्मि न कोरण पडिमा' (विसे १६३४) । २ खरिडत (इह० क० भा० उ० ४) ।

दलिअ वि [दे] १ निकृणितान, जिसने टेढी नजर की हो वह । २ न, जंगली (दे ५, ५२) । काष्ठ, लकडी (दे ५, ५२, पात्र) ।

दलिज्जत देखो दल = दलय् ।

दलिइ देखो दरिइ (हे १, २५४, गा २३०) ।

दलिहाअक [दरिद्रा] दुर्गंत होना, दरिद्र होना । दलिहाइ (हे १, २५४) । भुका दलिहाईअ (सकि ३२) ।

दल्लि वि [दलयत्] दल-युक्त, दलवाला (सण) ।

दलेमाण देखो दल = दा ।

दव सक [द्रु] १ गति करना । २ छोडना । दवए (विसे २८) ।

दव पुं [दव] १ जगल का अग्नि, वन की आग (दे ५, ३३) । २ वन, जगल । °गिग पु [गिगि] जगल का अग्नि (हे १, १७७, प्राप्र) ।

दव पु [द्रव] १ परिहास (दे ५, ३३) । २ पानी, जल (पचव २) । ३ पनीली वस्तु, रसीली चीज (विसे १७०७) । ४ वैग, 'दव-दवचारी' (सम ३७) । ५ समय, विरति (आचा) । °कर वि [कर] परिहासकारक (भग ६, ३३) । °कारी, °गारी स्त्री [कारी] एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास-जनक बातें कर जी बहलाना होता है (भग ११, ११, खाया १, १ टी पत्र ४३) । दवण न [दवत] यान, वाहन (सुअनि १०८) ।

दवणय देखो दमणय (भवि) ।

दवदव } अ [द्रवद्रवम्] शीघ्र, जल्दी,
दवदवस्स } 'दवदवचरा पमत्तजणा' (संवीष १४, उक्त १७, ८), 'दवदवस्स न गच्छेजा' (दस ५, १, १४), 'जह वणएवो वण दवद-वस्स जलिओ खणेण निहइ' (धर्मवि ८६) । दवदवा स्त्री [द्रवद्रवा] वेगवाली गति, 'नाऊण गय खुडिय नयरजणो धाविओ दव-दवाए' (पत्रम ८, १७३) ।

दवर पु [दे] १ तनु, डोरा, घागा (दे ५, ३५, आचम) । २ रज्जु, रस्ती (खाया १, ८) ।

दवरिया स्त्री [दे] छोटी रस्ती (विसे) ।

दवहुत्त न [दे] श्रौष-मुत्त, श्रौष काल का प्रारम्भ (दे ५, ३६) ।

दवाव सक [दापय्] दिलाना । दवावेइ (महा) । वकृ दवावेमाण (खाया १, १४) । सकृ दवावेऊण (महा) । हेकृ दवावेत्तए (कस) ।

दवावण न [दापन] दिलाना (निचू २) ।

दवाविअ वि [दापित] दिलाना हुआ (सुपा १३०, स १६३, महा, उप पृ ३८५, ७२८ टी) ।

दविअ पुन [द्रवण] १ अन्वयी वस्तु, जीव आदि मौलिक पदार्थ, मूल वस्तु (सम्म ६, विसे २०३१) । २ वस्तु, गुणाधार पदार्थ (श्रौष ५, आचा, कम्प) । ३ वि भव्य, मुक्ति के योग्य (सूत्र १, २, १) । ४ भव्य, सुन्दर, शुद्ध (सूत्र १, १६) । ५ राग-द्वेष से विरहित, वीतराग (सूत्र १, ८) । °णुओग पु [°णुओग] पदार्थ विचार, वस्तु की मोमासा (ठा १०) । देखो दव्व ।

दविअ वि [द्रविक] समय वाला, संयम युक्त, समयी (आचा) ।

दविअ वि [द्रवित] द्रव-युक्त, पनीली वस्तु (श्रौष) ।

दविइ देखो दविल (सुपा ५८०) ।

दविडी स्त्री [द्राविडी] लिपि-विशेष, तामिल भाषा (विसे ४६४ टी) ।

दविण न [द्रविण] धन, पैसा, सपत्ति (पात्र, कम्प) ।

दविय न [द्रव्य] १ घास का जगल, वन में घास के लिए सरकार से अन्नरुद्ध भूमि (आचा २, ३, ३, १) । २ सुए आदि द्रव्य-समुदाय (सूत्र २, २, ८) ।

दविल पु [द्रविड] १ देश-विशेष, दक्षिण देश-विशेष, मद्रास प्रांत । पुखी द्रविड देश का निवासी मनुष्य, द्राविड (परह १, १—पत्र १४) ।

दव्व देखो दविअ = द्रव्य (सम्म १२, भग, विसे २८, अणु, उक्त २८) । ६ धन, पैसा, सपत्ति (पात्र, प्रासू १३१) । ७ भूत या भविष्य पदार्थ का कारण (विसे २८, पचा ६) । ८ गौण, अप्रधान । ९ वाह्य, अतथ्य (पचा ४, ६) । °ट्टिय पु [°ट्टिक, °स्थित, °स्तिक] द्रव्य को ही प्रधान माननेवाला

जदस मुह जोइज्जइ, सो पुरिसो महीयले विरत्तो (रयण ३२)।

२ भिक्षा का अभाव (ठा ५, २)। ३ वि जहाँ पर भिक्षा न मिल सके वह देश आदि (ठा ३, १—पत्र ११८)।

दुम्भिज्ज देखो दुम्भेवज (पउम ८०, ६)।

दुम्भूइ बी [दुम्भूति] अशिव, अमंगल (बृह ३)।

दुम्भूय पुंन [दुम्भूत] १ नुकशान करनेवाला जन्तु—टिही वगैरह (भग ३, २)। २ न अशिव, अमंगल (जीव ३)।

दुम्भूय वि [दुम्भूत] दुराचारी (उत्त १७, १७)।

दुम्भेवज वि [दुम्भेय] तोडने को अशक्य (पि ८४, २८७, नाट—मृच्छ १३३)।

दुम्भेय वि [दुम्भेय] ऊपर देखो (राय)।

ग देखो दुम्भग (नव १५)।

न [दुम्भव] वर्तमान और आगामी 'दुग्ग' 'दुद्धसज्जो' (आ २७)।

[दुम्भभाग] आधा, अर्ध (भग ७, १)।

[दुम्भवलय] १ सफेद करना। २

दुम्भेय वि मे पोतना। दुम्भइ (हे ४, २४)।

दुम्भु (गा ७४७)। वहु दुम्भ (कुमा)।

दुम्भ पु [दुम्भ] १ वृक्ष, पेड, गाछ (कुमा, प्रासु ६, १४६)। २ चमरेन्द्र के पदाति-सैन्य का एक अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक)। ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक की गति प्राप्त की थी (अनु २)। ४ न एक देव-विमान (सम ३५)। ५ कत न [कान्त] एक विद्याधर-नगर (इक)। ६ पत्त न [पत्र] १ वृक्ष का पत्ता। २ 'उत्तराख्ययन' सूत्र का एक अध्येयन (उत्त १०)। ७ पुटिफया बी [पुटिफिका]

'स्यवैकालिक' सूत्र का पहला अध्येयन (दस १)। ८ राय पु [राज] उत्तम वृक्ष (ठा ४, ४)। ९ सेण पु [सेन] १ राजा श्रेणिक का एक पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक मे गति प्राप्त की थी (अनु २)। २ नववें बलदेव और वासुदेव के पूर्व-जन्म के धर्म-गुरु (सम १५३, पउम २०, १७७)।

दुम्भतय पु [दे] केश-वन्ध, धम्मिल्ल—वँधी चोटी, जूडा (दे ५, ४७)।

दुम्भण न [धवलन] चूना आदि से लेपन, सफेद करना (पएह २, ३)।

दुम्भणी बी [दे] सुधा, मकान आदि पोतने का श्रेत द्रव्य-विशेष, चूना (दे ५, ४४)।

दुम्भत्त वि [दुम्भत्त] दो मात्रावाला स्वर-वर्ण (हे १, ६४)।

दुम्भासिय वि [दुम्भासिक] दो मास का, दो मास-सम्बन्धी (सयण)।

दुम्भिअ वि [धवलित] चूना आदि से पोता हुआ, सफेद किया हुआ (गा ७४७, सुज्ज २०)।

दुम्भिल देखो दुम्भिल (पिग)।

दुम्भु पु [दुम्भुसु] एक राजपि (उत्त ६)।

दुम्भु देखो दुम्भुइ = दुम्भुइ (पि ३४०)।

दुम्भुत्त पुन [दुम्भुत्त] खराब युद्ध, दुष्ट समय (सुपा २३७)।

दुम्भोक्ख वि [दुम्भोक्ख] जो दु ख से छोडा जा सके (सूत्र १, १२)।

दुम्भ देखो दूम = दावय्। दुम्भइ (भवि)। दुम्भेति, दुम्भेसि (गा १७७, ३४०)। कर्म दुम्भिज्जइ (गा ३२०)।

दुम्भइ वि [दुम्भेति] दुद्धि, दुष्ट बुद्धिवाला (आ २७, सुपा २५१)।

दुम्भइणी बी [दे] ऋगडाखोर बी (दे ५, ४७, षट्)।

दुम्भण वि [दुम्भणस्] १ दुर्भना, क्लिप्त-मनस्क, उद्विग्न-चित्त, उदास (विपा १, १, सुर ३, १४७)। २ दोन, दोनतायुक्त। ३ द्विष्ट, द्वेष-युक्त (ठा ३, २—पत्र १३०)।

दुम्भण अक [दुम्भणाय्] उद्विग्न होना, उदास होना। वहु दुम्भणाअत, दुम्भणा-यमाण (नाट—महावी ६६, मालती १२८, रयण ७६)।

दुम्भणिअ न [दुम्भेति] उदासी, उद्वेग, चिन्ता, बेचैनी (दस ६, ३)।

दुम्भणिअ न [दुम्भेति] दुष्ट मनो-भाव, मन का दुष्ट विकार, दुर्जनता (दस ६, ३, ८)।

दुम्भय पु [दुम्भय] भिलारी, भीखमगा (दस ७, १४)।

दुम्भहिला बी [दुम्भहिला] दुष्ट बी (श्रीघ ४६४ टी)।

दुम्भमाण पु [दुम्भमाण] झूठा अभिमान, निन्दित गर्व (अच्छ ५४)।

दुम्भार पु [दुम्भार] विषम मार, भयंकर ताडन, 'दुम्भारेण मग्गो सोवि' (आ १२)।

दुम्भारि बी [दुम्भारि] उल्ट मारी-रोग (सवोध २)।

दुम्भारुय पु [दुम्भारुय] दुष्ट पवन (भवि)।

दुम्भिअ वि [दुम्भिअ] उपतापित, पीडित (गा ७४, २२४, ४२३, भवि, काप्र ३०)।

दुम्भिल बीन [दुम्भिल] छन्द-विशेष। बी. ० ला (पिग)।

दुम्भुइ देखो दुम्भुइ = द्विगुल (महा)।

दुम्भुइ पु [दुम्भुइ] बलदेव का धारणी देवी से उत्पन्न एक पुत्र, जिसने भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अत ३, पएह १, ४)।

दुम्भुइ पु [दे] मर्कट, वानर, बन्दर (दे ५, ४४)।

दुम्भेह वि [दुम्भेहस्] दुद्धि, दुर्भेति (पएह १, ३)।

दुम्भोअ वि [दुम्भोअ] दु ख से छोवने योग्य (अभि २४४)।

दुयणु देखो दुअणुअ (धर्मस ६४०)।

दुरइक्कम वि [दुरतिक्रम] दुर्लभ्य, जिसका उल्लघन दु ख साध्य हो वह (आचा)।

दुरइक्कमणिज्ज वि [दुरतिक्रमणीय] ऊपर देखो (आया १, ५)।

दुरत वि [दुरन्त] १ जिसका परिणाम—विपाक खराब हो वह, जिसका पर्यन्त दुष्ट हो वह (आया १, ८, पएह १, ४—पत्र ६५, स ७५०, उवा)। २ जिसका विनाश कष्ट-साध्य हो वह (तट्ट)।

दुरदर वि [दे] दु ख से उत्तीर्ण (दे ५, ४६)।

दुरक्खवि वि [दुरक्ख] जिसकी रक्षा करना कठिन हो वह (सुपा १४३)।

दुरक्खर वि [दुरक्खर] पुख, कठोर, कडा (वचन) (भवि)।

दुरग्गह पु [दुराग्रह] कदाग्रह (कुप्र ३७६)।

दुरज्जमवसिय न [दुरज्जमवसित] दुष्ट-चिन्तन (सुपा ३७७)।

कवक दज्मत, दज्ममाण (नाट—मालती ३०, पि २२२)।

दह पु [दह] हृद, बडा जलाशय, भील, सरोवर (भग, जवा, णाया १, ४—पत्र ६६, सुपा १३७)। °कुल्लिया स्त्री [°कुल्लिका] बल्ली-विशेष (परण १)। °वई, °वई स्त्री [°वती] नदी-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०, जं ४)।

दह देखो दस (हे १, २६२, द १२, पि २६२, पत्रम ७८, २५, से १३, ६४, प्राप्र, से १४, १६, ३, ११, १०, ४, पत्रम ८, ४४, प्राप्र)।

दहण न [दहन] १ दाह, भस्मीकरण। २ पु अग्नि, वहि (परह १, १, उप पृ २२, सुपा ४७४, आ २८)।

दहणी स्त्री [दहनी] विद्या-विशेष (पत्रम ७ १३८)।

दहवोली स्त्री [दे] स्थाली, थलिया, थरिया (दे ५, ३६)।

दहावण वि [दाहक] जलानेवाला (सण)।

दहि न [दधि] दही, दूध का विकार (ठा ३ १, णाया १, १, प्राप्र)। °घण पु [°घन] दधि-पिण्ड, अतिशय जमा हुआ दही (परण १७—पत्र ५२६)। °सुह पु [°मुख] १ द्वीप-विशेष (पत्रम ५१, १)। २ एक नगर (पत्रम ५१, २)। ३ पर्वत-विशेष (राज)। °वण्ण, °वन्न पु [°पर्ण] १ एक राजा, नृप-विशेष (कुप्र ६६)। २ वृक्ष-विशेष (श्रीप, सम १५२, परण १—पत्र ३१)। °वासुया स्त्री [°वासुका] वनस्पति-विशेष (बीव ३)। °वाहण पु [°वाहन] नृप-विशेष (महा)। °सर पु [°सर] खाद्य-द्रव्य विशेष, मलाई, (दे ३, २६, ५, ३६)।

दहि पि [दधि] १ दही, 'शुद्धावहीय महणेण' (धर्मवि ५५), 'अयतु दही' (सूअ २, १, १६)। २ तेला, लगातार तीन दिन का उपवास (सवोष ५८)।

दहिउप्फ न [दे] नवनीत, नैर्न, मक्खन (दे ५, ३५)।

दहिट्ट पु [दे] वृक्ष विशेष, कपिल्य, कैय या कैय का पेठ (दे ५, ३५)।

दहिण देखो दाहिण (नाट—वेणी ६७)।

दहिस्थर } पु [दे] दधिसर, दही पर की
दहिस्थार } मलाई, खाद्य-विशेष (दे ५, ३६)।

दहिमुह पु [दे] कपि, वानर (दे ५, ४४)।

दहिय पु [दे] पक्षि-विशेष, 'ज लावयति-रिदहियमोर मारति अहोस वि के वि घोरे' (कुप्र ४२७)।

दा सक [दा] देना, उत्सर्ग करना। दाइ, देइ (भवि, हे २, २०६, आचा, महा, कस)। भवि दाह, दाहामि, दाहिमि (हे ३, १७०, आचा)। कर्म दिज्जइ (हे ४, ४३८)। वकू दित, देत, ददत, देयमाण (सुर १, २१२, गा २३, ४६४, हे ४, ३७६, बृह १, णाया १, १४—पत्र १८६)। कवकू दिज्जत, दिज्जमाण, दीअमाण (गा १०१, सुर ३, ७६, १०, ५, सम ३६, सुपा ५०२, मा ३३)। सकू दञ्जा, दाउ, दाऊण (विपा १, १, पि ५८७, कुमा, उव)। हेकू दाउ (उवा)। कू दायव्व, देय (सुर १, ११०, सुपा २३३, ४४४, ५३२)। हेकू देव (अप) (हे ४, ४४१)।

दा° देखो दग। °थाला न [°थालक] जल से गीला थाल (भग १५—पत्र ६८०)। कलस पु [°कलश] पानी का छोटा घडा। °कुभ [°कुम्भ] जल का घडा। °वररा पु [°वारक] जल का पात्र-विशेष (भग १५—पत्र ६८०)।

दा देखो ता = तावत् (से ३, १०)।

दाअ देखो दाव = दशयं। दाएइ (विसे ८४४)। कर्म दाइज्जइ (विसे ४६०)। कवकू दाइ-ज्जमाण (कप्प)।

दाअ पु [दे] प्रतिभू, जामिनदार, जमानत करनेवाला (दे ५, ३८)।

दाअ पु [दाय] दान, उत्सर्ग (णाया १, १—पत्र ३७)।

दाइ वि [दायिन्] दाता, देनेवाला (उप पृ १६२)।

दाइअ वि [दर्शित] दिखलाया हुआ (विसे १०१२)।

दाइअ पु [दायिक] १ पैतृक सपत्ति का हिस्सेदार (उप पृ ४७, महा)। २ गौत्रिक, समान-गोत्रिय (कप्प)।

दाइज्जमाण देखो दाअ = दशयं।

दाइज्जय न [देयक] पाणिग्रहण के समय वर-वधू को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४६६)।

दाउ वि [दाउ] दाता, देनेवाला (महा, स १, सुपा १६१)।

दाउ देखो दा = दा।

दाओयरिय वि [दाओदरिक] जलोदर रोग-वाला (विपा १, ७)।

दाकखव (अप) देखो दकखव। दाकखवइ (प्राकू ११६)।

दाघ देखो दाह (हे १, २६४)।

दाडिम न [दाडिम] फल-विशेष, अनार (महा)।

दाडिमी स्त्री [दाडिमी] अनार का पेठ (पि २४०)।

दाढगालि देखो दढगालि (दसनि १, ४६ टी)।

दाढा स्त्री [दष्टा] बडा दाँत, दन्त विशेष, चौमड, चहू, दाढ (हे २, १३०, गउड)।

दाढि वि [दष्टिन्] १ दाढावाला। २ पुं, हिंसक पशु (वेणी ४६)। सूअर, वराह, 'किं दाढीमयभीओ नियय गुह क्सेरी रियइ' (पत्रम ७, १८)।

दाढिआ स्त्री [दे] दाढी, मुख के नीचे का भाग, शम्भु, ठुड्डी के नीचे या ठुड्डी पर के बाल (दे २, १०१)।

दाढिआलि } स्त्री [दष्टिकावलि] १ दाढा
दाढिगालि } की पत्ति। २ वल्ल-विशेष - (बृह ३, जीत)।

दाण पुंन [दान] १ दान, उत्सर्ग, द्याग, 'एए हवति दाणा' (पत्रम १४, ५४, कप्प, प्रासू ४८, ६७, १७२)। २ हाथी का मूद (पात्र, षड्, गउड)। ३ जो दिया जाय वह (गउड)। °विरय पु [°विरत] एक राजा (सुपा १००)। °साला स्त्री [°शाला] सनागार (ती ८)।

दाणतराय न [दानान्तराय] कर्म-विशेष, जिसके उदय से दान देने की इच्छा नहीं होती है (राय)।

दाणपारमिया स्त्री [दावपारमिता] दान, उत्सर्ग, समर्पण, 'दित्तस्स हिरन्नादी अन्भासा देहमादिय चैव। अग्गहविण्णित्ती जा सेट्ठा सा दाणपारमिया' (धर्मस ७३७)।

दुलघ देखो दुलघ (भवि) ।

दुलभ देखो दुलभ (भवि) ।

दुलह वि [दुर्लभ] १ जिसकी प्राप्ति दु ख से हो सके वह (कुमा, गउड, प्रासू १३४) । २ पुं. एक वणिक्-पुत्र (सुपा ६१७) । देखो दुलह ।

दुलि पुली [दे] कच्छप, कछुआ (दे ५, ४२, उप पृ १३५) ।

दुल न [दे] वज्र, कपडा (दे ५, ४१) ।

दुलघ वि [दुर्लभ] जिसका उल्लंघन कठिनाई से हो सके वह, अलघनीय (पउम १२, ३८, ४१, हेका ३१, सुर २, ७८) ।

दुलभ वि [दुर्लभ] डुराप, दुष्प्राप्य (उप पृ १३६, सुपा १६३, सण) ।

दुलन्ख वि [दुर्लक्ष] १ दुर्विज्ञेय, जो दु ख से जाना जा सके, अलक्ष्य (से ८, ५, स ६६, वजा १३६, आ २८) । २ जो कठिनाई से देखा जा सके (कप्प) ।

दुल्लग वि [दे] अघटमान, अयुक्त (दे ५, ४३) ।

दुल्लग न [दुर्लभ] दुष्ट लग्न, दुष्ट गृहार्त (सुत्रा २१५) ।

दुल्लभ } देखो दुलह, 'कि दुल्लभं जरो दुल्लभं } शुणगगाही' (गा ६७५, निरू ११) ।

दुल्लिअ वि [दुर्ललित] १ दुष्ट आदतवाला । २ दुष्ट इच्छावाला, 'विलसइ वेसाण गिहे विविहविलासेहि दुल्लिअओ', 'कीलइ दुल्लिय-वालकीलाए' (सुपा ४८५, ३२८) । ३ व्यसनी, आदतवाला, 'धत्ता सा पुत्तुकरिसनिम्मिया तिहययेवि तुह जणयो । जोइ पसुओ सि तुम दीणुद्धरणिक-दुल्लिअओ' (सुपा २१६) । ४ दुर्विदग्ध, दु शिक्षित (पाभ) । ५ न डुराशा, दुर्लभ वस्तु की अभिलाषा (महानि ६) ।

दुल्लसिआ ली [दे] दासी, नौकरानी (दे ५, ४६) ।

दुल्लह वि [दुर्लभ] १ डुराप, जिसकी प्राप्ति कठिनाई से हो वह (स्वप्न ४६, कुमा, जी ५०, प्रासू ११, ४६, ४७) । २ विक्रम

की ग्यारहवीं शताब्दी का गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (गु १०) । १ राय पु [राज] वही अर्थ (साधं ६६, कुप्र ४) । २ लभ वि [लभ] जिसकी प्राप्ति दु ख से हो सके वह (पउम ३५, ४७, सुर ४, २२६, वै ६८) ।

दुवई ली [दुपदी] छन्द-विशेष (ए ७१) ।

दुवण न [दावन] उपताप, पीडन (पएह १, २) ।

दुवण्ण } वि [दुर्वण] खराव रूपवाला (भग, दुवन्न } ठा ८) ।

दुवय पु [दुपद] एक राजा, द्रौपदी का पिता (गाया १, १६, उप ६४८ टी) । १ सुया ली [सुता] पाण्डव-पत्नी, द्रौपदी (उप ६४८ टी) ।

दुवयगया ली [दुपदाङ्गजा] राजा दुपद की लहकी, द्रौपदी, पाण्डवों की पत्नी (उप ६४८ टी) ।

दुवयगरुहा ली [दुपदाङ्गरुहा] अजर देखो (उप ६४८ टी) ।

दुवयण न [दुर्वचन] खराव वचन, दुष्ट उक्ति (पउम ३५, ११) ।

दुवयण न [द्विवचन] दो का बोधक व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय, दो सट्या की वाचक विभक्ति (हे १, ६४, ठा ३, ४—पत्र १५८) ।

दुवार } देखो दुआर (हे २, ११२, प्रति दुवाराय } ४१, सुपा ४८७), 'एगदुवाराए' (कस) । १ पाल पुं [पाल] दरवान, प्रतीहार (सुर १, १३४, २, १४८) । १ वाहा ली [वाहा] द्वार-भाग (आचा २, १, ५) ।

दुवारि वि [द्वारिन्] १ द्वारवाला । २ पु दरवान, प्रतीहार, 'बहुपरिवारो पत्तो राय-दुवारी तहि वरुणो' (सुपा २६५) ।

दुवारिअ वि [द्वारिक] दरवाजावाला, 'अव-गुयदुवारिए' (कस) ।

दुवारिअ पु [दौवारिक] दरवान, द्वारपाल (हे १, १६०, ससि ६, सुपा २६०) ।

दुवालस वि व [द्वादशन्] बारह, १२ (कप्प, कुमा) । १ मुहित्तअ वि [मौहूर्तिक] बारह गृहों का परिमाणवाला (सम २२) । १ विह वि [विध] बारह प्रकार का (सम २१) । १ हा अ [धा] बारह प्रकार (सुर

१४, ६१) । १ वत्त न [वर्त] बारह आवतवाला वन्दन, प्रणाम-विशेष (सम २१) ।

दुवालसग लीन [द्वादशाङ्गी] बारह जैन आगम-ग्रन्थ, 'आचारार्ग' आदि बारह सूत्र ग्रन्थ (सम १, हे १, २५४) । ली. १ गी (राज) । दुवालसगि वि [द्वादशाङ्गिन्] बारह अग्र-ग्रन्थों का जानकार (कप्प) ।

दुवालसम वि [द्वादश] १ बारहवाँ । २ न, लगातार पाँच दिनों का उपवास (आचा, गाया ११, ठा ६, सण) । ली १ भी (गाया १, ६) ।

दुविड्ड } पुं [द्विष्ट, द्विष्टिप] १ भरत-दुविट्ठु } षोडश में इस अवसरपिणी काल में उत्पन्न द्वितीय अर्ध-चक्रों राजा (सम १५८ टी, पउम ५, १५५) । २ भरत-क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाला आठवाँ अर्ध-चक्रों राजा, एक वासु-देव (सम १५४) ।

दुविभज्ज वि [दुर्विभाज्य] जिसका विभाग करना कठिन हो वह—परमाणु (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

दुविभव देखो दुव्विभव (ठा ५, १ टी) ।

दुवियद्ध वि [दुर्विदग्ध] दुश्शिक्षित, जान-कारी का झूठा अभिमान करनेवाला (उप ८३३ टी) ।

दुवियप्प पु [दुर्विकल्प] दुष्ट वितर्क (भवि) ।

दुविलय पु [दुविलक] एक अनार्य देश, 'डु (? डु) विलय-जउसडुकस—' (पव २७४) ।

दुविह वि [द्विविध] दो प्रकार का (हे १, ६४, नव ३) ।

दुचीस लीन [द्वाविंशति] बाईस, २२ (नव २०, पड) ।

दुवण्ण } देखो दुवण्ण (पउम ४१, १७, दुवन्न } पएह १, ४) ।

दुवण्ण न [दुवण्ण] १ दुष्ट नियम । २ वि दुष्ट नव करनेवाला । ३ अत-रहित, नियम-वजित (ठा ४, ३, विपा १, १) ।

दुवण्ण न [दुर्वचन] दुष्ट उक्ति, खराव वचन (पउम ३३, १०६, विसे ५२०, उव गा २६०) ।

दुवण्ण देखो दुवण्ण (अहा) ।

दुवण्ण न [दुवण्ण] खराब आदत, बुरी आदत (सुपा १:५, ४८६, भवि) ।

दालिह देखो दारिह (हे १, २५४, प्रासु ७०)।

दालिहिय देखो दारिहिय (सुर १३, ११६, वजा १३८)।

दालिम देखो दालिम (प्राप्र)।

दालियव न [दालिकाम्ल] दाल का बना हुआ खाद्य-विशेष (परह २, ५)।

दालिया स्त्री [दालिका] देखो दालि (उवा)।

दाली देखो दालि (श्रीध ३२३)।

दाव सक [दर्शय] दिखलाना, बतलाना। दावइ, दावेइ (ह ४, ३२, गा ३१५)। वहु दावत (गा ६२०)।

दाव सक [दापय] दिलाना, दान करवाना। दावेइ (कम्)। वहु दावेंत (पउम ११७, २६, सुपा ६१८)। हेहू दावेत्तए (कम्प)।

दाव देखो ताव = तावट (से ३, २६, स्वप्न १२, भ्रमि ३६)।

दाव पु [दाव] १ वन, जंगल। २ देव, देवता (मे ६, ४३)। ३ जंगल का प्रतिन (प्राप्र)। ०गि पु [०गि] जंगल की भाग (हे १, ६७)। ०णल, ०नल पु [०नल] जंगल की भाग (सण, सुपा १६७, पडि)।

दावण न [दामन] छान, पशुओं को पेर में बांधने की रस्ती (कुप्र ४३६)।

दावण न [दापन] दिलाना (सुपा ४६६)।

दावणया स्त्री [दापना] दिलाना (स ५१, पडि)।

दावहव पु [दावद्रव] वृक्ष-विशेष (राया १, ११—पत्र १७१)।

दावर पु [द्वारपर] १ युग-विशेष, चौसरा युग। २ न द्विक, दो, 'नो तिय नो जेव दावर' (सूत्र १, २, २, २३)। ०जुम्म पु [०युग्म] राशि-विशेष (ठा ४, ३—पत्र २३७)।

दावाय सक [दापय] दिलाना। सहु दावावेउ (महा)।

दाविअ रि [दशित] दिखलाया हुआ, प्रदर्शित (प्राप्र ने १, ५३, ५, ८०)।

दाविअ वि [दापित] दिलाया हुआ (सुपा २४१)।

दाविअ वि [दायित] १ करामा हुआ, टप-कामा हुआ। २ नरम किया हुआ (अच्छु ८८)।

दावेंत देखो दाव = दापय।

दास पु [दर्श] दर्शन, प्रवलोकन (षड्)।

दास पु [दास] १ नौकर, कर्मकर (ह २, २०६, सुपा १२२, प्रासु १७५, स १८, कम्प)। २ घोवर, मल्लाह, 'केवट्टो घोवरो दासो' (प्राप्र)। ०चेड, ०चेटग पु [०चेट] १ छोटी उम्र का नौकर। २ नौकर का लडका (महा, राया १, २)। ०सच्च पु [०सत्य] श्रीकृष्ण (अच्छु १७)।

दासरहि पु [दाशरथि] राजा दशरथ का पुत्र, रामचन्द्र (से १, १४)।

दासी स्त्री [दासी] नौकरानी (श्रीप, महा)। दासीखट्टडडिया स्त्री [दासीकर्वटिका] जैन मुनियों की एक शाखा (कम्प)।

दाह पु [दाह] १ ताप, जलन, गरमी। २ दहन, भस्मीकरण (हे १, २६४, प्रासु १८)। ३ रोग-विशेष (विपा १, १)। ०ज्वर पु [०ज्वर] ज्वर-विशेष (सुपा ३११)। ०बर्क-तिय वि [०व्युत्क्रान्तिक] जिसको दाह उत्पन्न हुआ हो वह (राया १, १—पत्र ६४)।

दाह देखो दा = दा।

दाहग वि [दाहक] जलानेवाला (उवर ८१)।

दाहन न [दाहन] जलाना, भस्म कराना (पउम १०२, १६१)।

दाहविय वि [दाहित] जलवाया हुआ भाग लगवाया हुआ (हम्मोर २७)।

दाहिण देखो दक्खिण (भग, कस, हे १, ४५, २, ७२, गा ४३३, ८१६)। ०दारिय वि [०द्वारिक] दक्षिण दिशा में जिसका द्वार हो वह। २ न अश्विनी-प्रमुख सात नक्षत्र (ठा ७)। ०पच्चत्थिम वि [०पश्चिमीय] दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का भाग, नैऋत कोण (भग)। ०पह पु [०पथ] १ दक्षिण देश की ओर का रास्ता। २ दक्षिण देश, 'गच्छामि दाहिणपह' (पउम ३२, १३)। ०पुरत्थिम वि [०पूर्वीय] दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का भाग, अग्नि-कोण (भग)। ०वत्त वि [०वर्त] दक्षिण में आवतवाला (शख आदि) (ठा ४, २—पत्र २१६)।

दाहिणा देखो दक्खिणा (ठा ६, सुज्ज १०)।

दाहिणिल्ल देखो दक्खिणिल्ल (पउम ७, १७, विपा १, ७)।

दाहिणी स्त्री [दक्षिगा] दक्षिण दिशा (कुमा)। दि वि व. [द्वि] दो, दो की सख्यावाला (हे १, ६४, से ६, ५३)।

दि देखो दिसा (गा ८६६)। ०करि पु [०करिन्] दिग्-हस्ती (कुमा)। ०गाइव पु [०गाजेन्द्र] दिग्-हस्ती (गउड)। ०गय पु [०गज] दिग्-हस्ती (स ११३)। ०चकसार न [०चक्रसार] विद्याधरो का एक नगर (इक)। ०म्मोह पु [०मोह] दिशा-भ्रम (गा ८८६)। देखो दिसा।

दिअ पुन [दे] दिवस, दिन (दे ५, ३६), 'राइदिआइ' (कम्प)।

दिअ पु [द्विज] १ ब्राह्मण, विप्र (कुमा, प्राप्र, उप ७६८ टी)। २ दन्त, दांत। ३ ब्राह्मण आदि तीन वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ४ अण्डज, अण्डे से उत्पन्न होनेवाला प्राणी। ५ पक्षी। ६ वृक्ष-विशेष, टिंवरु का पेड़ (हे १, ६४)। ०राय पुं [०राज] १ उत्तम द्विज। २ चन्द्रमा (सुपा ४१२, कुप्र १६)।

दिकु पु [द्विक] काक, कौआ (उप ७६८ टी)।

दिअ पु [द्विप] हस्ती, हाथी (हे २, ७६)। दिअ न [दिव] स्वर्ग, देवलोक (पिंग)। ०लोअ, ०लोग पु [०लोक] स्वर्ग, देवलोक (पउम २२, ४५, सुर ७, १)।

दिअ वि [दित] छिन्न, काटा हुआ (धम्मो १)।

दिअ वि [द्वत] हत, मार डाला हुआ, 'चदेण व दियरएण जेण आणुदिय भुवण' (कुप्र १६)।

दिअत पुं [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग (महा)।

दिववर वि [दिगम्बर] १ नग्न, नगा, वस्त्र-रहित। २ पु एक जैन सप्रदाय (भवि, उवर १२२, कुप्र ४४३)।

दिअउत्त पुं [दे] सुवर्णकार, सोनार (दे ५, ३६)।

दिअधुत्त पुं [दे] काक, कौआ (दे ५, ४१)। दिअर पु [देवर] पति का छोटा भाई (गा ३५, प्राप्र, पाप्र, हे १, १४६, सुपा ४८७)।

दुस्सहिय वि [दुस्सोड] दु ख से सहन किया हुआ (सूत्र १, ३, १)।

दुस्सासण पु [दुस्सासन] दुयौवन का एक छोटा भाई, कौरव-विशेष (चार १२, वेणी १०७)।

दुस्साहड वि [दुस्साहड] दु ख से एकत्रित किया हुआ, 'दुस्साहड धण हिन्वा वह सन्धिणिया रयं' (उत्त ७, ८)।

दुस्साहिअ वि [दुस्साधिक] दुस्साध्य कार्य को करनेवाला (पि ८४)।

दुस्सिमख वि [दुस्सिशाक्ष] दुष्ट शिक्षावाला, दुस्सिधित, दुस्सिदध (उप १४६ टी, कुम २८३)।

दुस्सिखिअ पि [दुस्सिधित] अपर देखो (गा ६०२)।

दुस्सिज्जा औ [दुस्साय्या] खराब शय्या (वस ८)।

दुस्सिलिडु वि [दुस्सिलिट] कुत्सित श्लेष-वाला (पि १३६)।

दुस्सोल वि [दुस्सोल] दुष्ट स्वभाववाला। २ व्यभिचारी (परह १, १, सुपा ११०)। औ 'ला (पाम)।

दुस्सुमिण पुन [दुस्स्वप्न] दुष्ट स्वप्न, खराब स्वप्न—मपना (परह १, २)।

दुस्सुय न [दुस्सुय] १ दुष्ट शाल। २ वि श्रुति-कटु (परह १, २)।

दुस्सेज्जा देखो दुस्सिज्जा (उप)।

दुह सक [दुह] दूहना, दूध निकालना। दुहेज्जह (महा)। कर्म दुहिज्जह, दुम्मह (हे ४, २४५), भवि दुहिहिड, दुम्महिड (हे ४, २४५)।

दुह सक [दुह] द्रोह करना, द्वेष करना, बैर करना। दुहड (विचार ६४७)।

दुह देखो दोह = दोह (राज)।

दुह देखो दुक्ख = दु ख (हे २, ७२, प्रासू २६, २८, १६२)। अ वि [द] दु ख देनेवाला, दु ख-जनक (सुपा ४३४)। ट्ट वि [ति] दु ख से पीडित (विपा १, १, सुपा ३३८)। ट्टिय वि [ति] दु ख से पीडित (औप)। ट्ट पुं [ति] नरक-स्थान (सूत्र १, ५, १)। ट्ट देखो ट्ट (उप पु

७६, ७२८ टी)। फास पु [स्पश] दु ख-जनक स्पर्श (शाया १, १२)। भागि वि [भागिन्] दु ख में भागीदार (सुपा ४३१)। मच्चु पु [मत्तु] अपमृत्यु, अकाल मौत (सुर ८, ५३)। विवाग पु [विपाक] दु ख रूप कर्म-फल (विपा १, १)। सिज्जा, सेज्जा औ [शय्या] दु ख-जनक शय्या (ठा ४, ३)। विह वि [विह] दु ख-जनक (पउम ८२, ६१, सुर ८, १६२, प्रासू १६६)।

दुह देखो दुहा (भग ८, ८)।

दुहअ वि [दे] चरित, चूर-चूर किया हुआ (दे ५, ४५)।

दुहअ वि [दुह] खराब रीति से मारा हुआ (आचा)।

दुहअ वि [दुह] दो से मारा हुआ (आचा)।

दुहअ देखो दुहभग (पड)।

दुहओ अ [दुहातस्] दोनों तरफ से, उभय प्रकार से (आचा: ठा ५, ३, कस, भग, पुफ ४७०, आ २७)।

दुहड वि [दुहड] दो दुकडेवाला, 'किच्चेव विव (? यो) दुहड' (रभा)।

दुहग देखो दुहभग (कम्म ३, ३)।

दुहट्ट वि [दुहट्ट] दुर्निरोध, दुर्वार (शाया १, ८)।

दुहण देखो दुघण (परह १, १—पत्र १८)।

दुहण पु [दुहण] प्रहरण-विशेष, 'चम्मदु-धरामोदियमोगगरवरफलिहजतपत्थरदुहणतोण-कुवेणी—' (परह १, ३—पत्र ४४)।

दुहण न [दोहन] दोह, दोहना (परह १, २)।

दुहदुहग पु [दुहदुहक] 'दुह-दुह' आवाज (राय १०१)।

दुहव देवो दूहव (पि ३४०, हे १, ११५ टी)। औ औ (पि २३१)।

दुहा अ [दुहा] दो प्रकार, दो तरफ, उभयथा (जो ८, प्रासू १४४)। इअ वि [कृत] जिसको दो खण्ड किये गये हो वह (प्राप्र, कुमा)।

दुहाकर सक [दुहा + क] दो खण्ड करना। कर्म दुहाज्जह, दुहाकिज्जह (प्राप्र, हे १,

६७)। कवक कज्जमाण, किज्जमाण (पि ५४७, ४३६)। सक काउ (महा)।

दुहाव सक [दुहा] छेदना, छेदा करना, खरिडत करना। दुहावड (हे ४, १२४)।

दुहाव सक [दुहा] दु खी करना, दुभाना, दुखाला (प्रामा)।

दुहावण वि [दुखन] दु खी करनेवाला (सण)।

दुहाविअ वि [दुहा] खरिडत (प्राप्र, कुमा)।

दुहाविअ वि [दुखन] दु खी किया हुआ (गउड)।

दुहि वि [दुखन] दु खी, व्यथित, पीडित (उप ६८६ टी)। औ णो (कुमा)।

दुहिअ वि [दुखित] पीडित, दु खयुक्त (हे २, १६४, कुमा, महा)।

दुहिअ वि [दुग्ध] जिसका दोहन किया गया हो वह (दे १, ७)। दुहम वि [दोह] एक बार दोहने पर फिर भी दोहने योग्य, फिर-फिर दोहने योग्य (दे १, ७, ५, ४६)।

दुहिया [दुहिय] लडकी, पुत्री (सुपा १७६, हे २, ३५)। दइअ पु [दयित] जलपता (सुपा ४५७)।

दुहिय पु [दुहिय] ब्रह्मा, चतुसुख, 'अवि दुहियप्पमुहेहि आणत्ती तुह अलघणिएज्जावा' (अच्छ १६)।

दुहित्त पु [दुहित्त] लडकी का लडका, नाती (उप पृ ७४)।

दुहित्तिया औ [दुहित्तिका] लडकी की लडकी, नतिनी (उप पृ ७४)।

दुहिती औ [दुहित्ती] लडकी की लडकी, नतिनी या नातिनी, 'पुत्ती सह दुहिती होइ य अज्जा सवक्की य' (सु ११७)।

दुहिदिआ (शौ) औ [दुहिय] लडकी, कन्या (प्राक ६५)।

दुहिल वि [दुहिल] द्रोही, द्रोह करनेवाला (विसे ६६६ टी)।

दू सक [दू] उपताप करना। २ काटना। कर्म 'दुपज्जु च्छू' (परह १, २)।

दूअ पु [दू] दूत, सदेश-हारक (प्राप्र, पउम ५३, ४३, ४६)।

सूर्य, दिवाकर (पात्र, से १, १८, सुपा २३) ।
 सुह न [सुख] प्रभात, प्रात काल
 (पात्र) । यर देखो कर (गडड, भवि) ।
 रयणिकरि श्री [रजनि करी] विद्या-विशेष
 (पउम १३८) । वइ पु [पति] सूर्य,
 रवि (पि ३७६) ।

दिगिद पु [दिनेन्द्र] सूर्य, रवि (सुपा २४०) ।
 दिगेश पु [दिनेश] १ सूर्य, सूरज (कप्पू) ।
 २ वाह की सख्या (विदे १४४) ।

दिण्ण वि [दत्त] १ दिया हुआ, वित्तियों
 (हे १, ४६, प्राप्र, स्वप्न, प्रासू १६४) ।
 २ निवेशित, स्थापित (परह १, १) ।
 ३ पु भगवान् पारवनाथ के प्रथम गण-
 वर (सम १५२) । ४ भगवान् श्रेयासनाथ का
 पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ५ भगवान्
 चन्द्रप्रभ का प्रथम गणधर (सम १५२) ।
 ६ भगवान् नमिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाला
 एक गृहस्थ (सम १५१) । देखो दिन्न ।

दिण्ण देखो दइन्न (राज) ।

दिण्णेइय वि [दत्त] दिया हुआ (शोध २२
 भा टी) ।

दिन्त वि [दीप्त] १ ज्वलित, प्रकाशित (सम
 १५३, अजि १४, लहुअ ११) । २ कान्ति-
 युक्त, भास्वर, तेजस्वी (पउम ६४, ३५, सम
 १२२) । ३ तीक्ष्णभूत, निशित (सम १५३,
 लहुअ ११) । ४ उज्ज्वल, चमकीला (एदि) ।
 ५ पुष्ट, परिवृद्ध (उत्त ३४) । ६ प्रसिद्ध (भग
 २६, ३) । ७ मारनेवाला (शोध ३०२) ।
 चित्त वि [चित्त] हर्ष के अतिरेक से
 जिसको चित्त-भ्रम हो गया हो वह (वह ३) ।

दिन्त वि [दत्त] १ गवित, गर्व-युक्त (श्रीप) ।
 २ मारनेवाला । ३ हानि-कारक (शोध
 ३०२) । इत्त वि [चित्त] २ जिमके मन
 मे गर्व हो । २ हर्ष के अतिरेक से जो पागल
 हो गया हो वह (ठा ५, ३—पत्र ३२७) ।

दिन्ति श्री [दोप्ति] कान्ति, तेज, प्रकाश (पात्र,
 सुर ३, २, १०, ४६, सुपा ३७८) । म
 वि [मन्] कान्ति-युक्त (गच्छ १) ।

दिन्ति श्री [दोप्ति] उदीपन (उत्त ३२, १०) ।
 ह वि [मन्] प्रकाशवाला (सम्मत्त
 १५६) ।

दिदिकखा } श्री [दिदक्षा] देखने की इच्छा
 दिदिच्छा } (राज, सुपा २६४) ।

दिद्ध वि [दिग्ध] लिप्त (निचू १) ।

दिन्न देखो दिण्ण (महा, प्रासू ५७) । ७ श्री
 गौतम स्वामी के पास पांच सौ तापसों के
 साथ जैन दोक्षा लेनेवाला एक तापस (उप
 १४२ टी, कुप्र २६३) । ८ एक जैन आचार्य
 (कप्प) ।

दिन्नय पुं [दत्तक] गोद लिया हुआ पुत्र (ठा
 १०—पत्र ५१६) ।

दिप्प अक [दीप्] १ चमकना । २ तेज
 होना । ३ जलना । दिप्पइ (हे १, २२३) ।
 वक्र. दिप्पत, दिप्पमाण (से ४, ८, सुर
 १४, ५६, महा, परह १, ४, सुपा २४०),
 'दिप्पमाणे तवतेएए' (स ६७५) ।

दिप्प अक [टप्] टूट होना, सन्तुष्ट होना ।
 दिप्पइ (पड्) ।

दिप्प वि [दीप्] चमकनेवाला, तेजस्वी (से
 १, ६१)

दिप्प (अप) पु [दीप्] १ दीपक । २ छन्द
 विशेष (पिग) ।

दिप्पंत पु [दे] अर्थ (दे ५, ३६) ।

दिप्पंत
 दिप्पमाण } देखो दिप्प = दीप् ।

दिप्पिर देखो दिप्प = दीप् (कुमा) ।

दियाव सक [दा] देना । दियावेइ (पचा १३,
 १२) ।

दिरय पु [द्विरद] हस्ती, हाथी (हे १, ६४) ।

दिलादिलिअ [दे] देखो दिलिदिलिअ (गा
 ७४१) ।

दिलिदिल अक [दिलिदियाय] 'दिल्ल दिल्ल'
 आवाज करना । वक्क दिलिदिलत (पउम
 १०२, २१) ।

दिलिवेठय पु [दिलिवेठक] एक प्रकार का
 ग्राह, जल-जन्तु की एक जाति (परह १, १) ।

दिलिदिलिअ पु [दे] बालक, शिशु, लडका
 (दे ५, ४०) । श्री आ, बाला, लडकी
 (गा ७४१) ।

दिव उभ [दिव्] १ क्रीडा करना । २
 जीतने की इच्छा करना । ३ लेन-देन करना ।
 ४ चाहना, वाछना । ५ आना करना ।
 दिवइ, दिवए (पड्) ।

दिव न [दिव्] स्वर्ग, देवलोक (कुप्र ४३६,
 भवि) ।

दिवड्ड वि [द्व्यपार्ध] डेढ, एक और आवा
 (विसे ६६३, स ५५, सुर १०, २०८, सुपा
 ५८०, भवि, सम ६६, सुज्ज १, १०, ठा ६) ।

दिवस } देखो दिअस (हे १, २६३, उव,
 दिवह } प्रासू १२, सुपा ३०७, वेणी ४७) ।
 पुहुत्त न [पृथक्त्व] दो से लेकर नव
 दिन तक का समय (भग) ।

दिवा देखो दिआ (गाया १, ४, प्रासू ६०) ।
 इत्ति पु [कीत्ति] चारुवाल, भगी (दि
 ५, ४१) । कर पु [कर] सूर्य, सूरज
 (उत्त ११) । कित्ति पु [कीत्ति] नापित,
 हजाम (कुप्र २८८) । गर देखो कर (गाया
 १, १, कुप्र ४१५) । सुह न [सुख]
 प्रभात (गडड) । यर देखो कर (सुपा ३६,
 ३१४) । यरत्थ न [करास] प्रकाश-
 कारक अन्न विशेष (पउम ६१, ४४) ।

दिवायर पु [दिवाकर] १ सिद्धसेन नामक
 विख्यात जैन कवि और ताकिंक । २ पूर्ववर
 मुनि (सम्मत्त १४१) ।

दिवि देखो देव, 'दिवियावि काणपुरिसे-
 एण्व एसा दासी अह च विष्णवरो एगया दिट्ठीए
 विस्सामो' (रभा) ।

दिविअ पु [द्विविद] वानर-विशेष (से ४, ८,
 १३, ८२) ।

दिविज वि [दिविज] १ स्वर्ग में उत्पन्न । २
 पुं देव, देवता (अजि ७) ।

दिविड्ड देखो दुविट्ट (राज) ।

दिवे (अप) देखो दिवा (हे ४, ४१६, कुमा) ।
 दिव्व वि [दिव्व] १ स्वर्ग-सम्बन्धी, स्वर्गीय
 (स २, ठा ३, ३) । २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर
 (पउम ८, २६१, सुर २, २४२, प्रा
 १२८) । ३ प्रधान, मुख्य (श्रीप) । ४ देव
 सम्बन्धी (ठा ४, ४, सूत्र १, २, २) । ५ न
 शपथ-विशेष, आरोप की शुद्धि के लिए किय
 जाता अग्नि-प्रवेश आदि (उप ८०४) । ६
 प्राचीन काल में अपुत्रक राजा की मृत्यु ह
 जाने पर जिस चमत्कार-जनक घटना से राज
 गद्दी के लिए किसी मनुष्य का निर्वाचन होत
 था वह हस्ति-गर्जन, अश्व-द्वेषा आदि अल
 किक प्रमाण (उप १०३१ टी) । भाणु

दूसिअ वि [दूषित] १ दूषण युक्त, कलङ्क-युक्त (महा, भवि) । २ पु एक प्रकार का नपुंसक (बृह ४) ।

दूसिआ स्त्री [दूषिका] शॉख का मेल (कुमा) ।

दूसुमिण देखो दुस्सुमिण (कुमा) ।

दूहअ वि [दु खक] दु ख-जनक, 'असईएँ दूहओ चंदो' (वज्जा ६८) ।

दूहट्ट वि [दे] लज्जा से उद्विग्न (दे ५, ४८) ।

दूहय देखो दोधअ (सिरि ६६१) ।

दूहल वि [दे] दुर्मंग, मन्दभाग्य (दे ५, ४३) ।

दूहव देखो दुव्भग (हे १, ११५, १६२, कुमा, सुपा ५६७, भवि) ।

दूहव सक [दु खय] दूमाना, दु खी करना । दूहवेइ (सिरि १६७) ।

दूहविअ वि [दु खित] दु खी किया हुआ हुआया हुआ, 'कि केणवि दूहविया' (कुम्मा १०) ।

दूहिअ वि [दु खित] दु ख-युक्त (हे १, १३, ससि १७) ।

दे अ इन अर्थों का सूचक अव्यय । १ समुख-करण । २ सखी को आमन्त्रण (हे २, १६२) ।

दे अ [दे] पाद-पूरक अव्यय (प्राक ८१) ।

देअ देखो देव (शुद्धा १६१, चड) ।

देअर देखो दिअर (कुमा, काप्र २२४, महा) ।

देअराणी स्त्री [देवरपत्नी] देवराणी, पति के छोटे भाई की बहू (हे १, ५१) ।

देई देखो देवी (नाट—उत्त १८) ।

देउल न [देवकुल] देव-मन्दिर (हे १, १७१, कुमा) । 'णाह पु [नाथ] मन्दिर का स्वामी (षड्) । 'वाडय पुन [पाटक] मेवाड का एक गाँव, 'देउलवाडयपत्त तुट्टण-सील च अइमहण' (वज्जा ११६) ।

देउलिअ वि [दैवकुलिक] देव स्थान का परिपालक (श्रोध ४० भा) ।

देउलिआ स्त्री [दैवकुलिका] छोटा देव-स्थान (उप पृ ३६६, ३२० टी) ।

देत्त देखो दा = दा ।

देक्ख सक [दृश] देखना, अवलोकन करना । देक्खइ (हे ४, १८१) । वक्

देक्खत (अभि १४१) । सक्क देक्खिअ (अभि १६६) ।

देक्खालिअ वि [दर्शित] दिखाया हुआ, बतलाया हुआ (सुर १, १५२) ।

देख (अप) देखो देक्ख । देखइ (भवि) ।

देह्ठ देखो दिट्ठ = दृष्ट (प्रति ४०) ।

देण्ण देखो दइण्ण (णाय १, १—पत्र ३३) ।

देपाल पु [देवपाल] एक मन्त्री का नाम (ती २) ।

देप्प देखो दिप्प = दीप् । वक्क —देप्पमाण (कुप्र ३४४) ।

देय } देखो दा = दा ।
देयमाण }

देर देखो दार = द्वार (हे १, ७६, २, १७२, दे ६, ११०) ।

देव उभ [दिच्] १ जीतने की इच्छा करना । २ पण करना । ३ व्यवहार करना । ४ चाहना । ५ आज्ञा करना । ६ अव्यक्त शब्द करना । ७ हिसा करना । देवइ (ससि ३३) ।

देव पु न [देव] १ अमर, सुर, देवता, 'देवाणि, देवा' (हे १, ३४, जी १६, प्रासू ८६) । २ मेघ । ३ आकाश । ४ राजा, नरपति, 'तहेव मेह व नह व माएव न देव देवत्ति गिर वएज्जा' (दस ७, ५२, भास ६६) । ५ पु परमेश्वर, देवाधिदेव (भग १२, ६, दस ५, सुपा १३) । ६ साधु, मुनि, ऋषि (भग १२, ६) । ७ द्रोप-विशेष । ८ समुद्र विशेष (परण १५) । ९ स्वामी, नायक (आत्त ५) । १० पूज्य, पूजनीय (पचा १) । 'उत्त वि [उत्त] देव से बोया हुआ । २ देव-कृत, 'देवउत्ते अय लोए' (सूअ १, १, ३) । 'उत्त वि [गुप्त] देव से रक्षित (सूअ १, १, ३) । २ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (स १५४) । 'उत्त पु [पुत्र] देव-पुत्र (सूअ १, १, ३) । 'उल न [कुल] देव-गृह, देव-मन्दिर (हे १, २७१, सुपा २०१) । 'उलिया स्त्री [कुलिका] देहरी, छोटा देव-मन्दिर (कुप्र १४४) । 'कन्ना स्त्री [कन्या] देव-पुत्री (णाय १, ८) । 'कहकहय पु [कहकहक] देवताओं का कोलाहल (जीव ३) । 'किच्चिस

पु [किच्चिप] चारुडाल-स्थानीय देव-जाति (ठा ४, ४) । 'किच्चिसिय पु [किच्चिपिक] एक अघम देव-जाति (भग ६, ३३) । 'किच्चिसीया स्त्री [किच्चिधीया] देखो देवकिच्चिसिया (बृह १) । 'कुरा स्त्री [कुरा] क्षेत्र विशेष, वर्ष-विशेष (इक) । 'कुरु पु [कुरु] नही अर्थ (परह १, ४, सम ७०, इक) । 'कुल देखो 'उल (पि १६८, कप्प) । 'कुलिय पु [कुलिक] पुजारी (आवम) । 'कुलिया देखो 'उलिया (कुप्र १४४) । 'गइ स्त्री [गति] देवयोनि (ठा ५, ३) । 'गणिया स्त्री [गणिना] देव-वेश्या, अम्सरा (णाय १, १६) । 'गिह न [गृह] देव-मन्दिर (सुपा, १३, ३४८) । 'गुत्त पु [गुप्त] १ एक परिव्राजक का नाम (श्रोप) । २ एक भावी जिनदेव (तित्थ) । 'चद पु [चन्द्र] एक जैन उपासक का नाम (सुपा ६३२) । सुप्रसिद्ध श्री हेमचन्द्राचार्य के गुरु का नाम (कुप्र १६) । 'अय वि [अर्चक] १ देव की पूजा करनेवाला । २ पु मन्दिर का पुजारी (कुप्र ४४१, ती १५) । 'च्छदग न [च्छन्दक] जिनदेव का आसन (जीव ३, राय) । 'जस पु [अशस्] एक जैन मुनि (अत ३, सुपा ३४२) । 'जाण न [यान] देव का वाहन (पचा २) । 'जिण पु [जिन] एक भावी जिनदेव का नाम (पव ७) । 'डिह देखो देविडिह (ठा ३, ३, राज) । 'णाअअ पु [नायक] नीचे देखो (अच्छु ३७) । 'णाह पु [नाथ] १ इन्द्र । २ परमेश्वर, परमात्मा (अच्छु ६७) । 'तम न [तमस्] एक प्रकार का अन्व कार (ठा ४, २) । 'थुइ, 'थुइ स्त्री [स्तुति] देव का गुणानुवाद (आप्र) । 'दत्त पु [दत्त] व्यक्तिवाचक नाम (उत्त ६, पिड, पि ५६६) । 'दत्ता स्त्री [दत्ता] व्यक्तिवाचक नाम (विपा १, १, ठा १०) । 'द्वव न [द्वव्य] देव-सवन्वी द्वव्य (कम्म १, ५६) । 'दार न [द्वार] देव-गृह विशेष का पूर्वोच्य द्वार, सिद्धायतन का एक द्वार (ठा ४, २) । 'दारु पु [दारु] वृक्ष-विशेष, देवदार का पेड़ (पउम ५३, ७६) । 'दाली स्त्री [दाली] वनस्पति-विशेष, रोहिणी

कुमार पु [कुमार] एक देव-जाति (भग १६, १३)। ण्णु वि [ङ्ग] द्वीप के मार्ग का जानकार (उप ५६५)। सागरपञ्चत्ति स्त्री [सागरप्रज्ञप्ति] जैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमें द्वीपो और समुद्रों का वर्णन है (ठा ३, २—पत्र १२६)।
 दीव पु [द्वीप] सौराष्ट्र का एक नगर, दीव (पव १११)।
 दीवअ पु [दे] डकलास, गिरगिट (दे ५, ४१)।
 दीवअ पु [दीपक] १ प्रदीप, दिया, चिराग, आलोक (गा २२२, महा)। २ वि दीपक, प्रकाशक, शोभा-कारक (कुमा)। ३ न. छन्द-विशेष (अजि २६)।
 दीवग पु [दीपाङ्ग] प्रदीप का काम देनेवाले कल्पवृक्ष की एक जाति (ठा १०)।
 दीवग देखो दीवअ = दीपक (आ ६, आवम)।
 दीवड पु [दे] जलजन्तु-विशेष, 'फुरंतसिप्पि-सपुड भमतभौददीवड' (सुर १०, १८८)।
 दीवण न [दीपन] प्रकाशन (शोध ७४)।
 दीवणा स्त्री [दीपना] प्रकाश, 'शुभ्रो सत्तगुण-दीवणाहिं' (स ६७५)।
 दीवणिज्ज वि [दीपनीय] १ जठरारिण को बढानेवाला (गाया १, १—पत्र १६)। २ शोभायमान, देवीप्यमान (परण १७)।
 दीवयं देवो दीव = दिव्।
 दीवयत देखो दीव = दीपय्।
 दीवायण पुं [द्वीपायन, द्वैपायन] एक प्राचीन ऋषि, जिसने द्वारका नगरी जलाने का निदान किया था, और जो आगामी उत्सर्पिणी काल में भरत-क्षेत्र में एक तीर्थकर होगा (अत १५, सम १५४, कुप्र ६३)।
 दीवि } पु [द्वीपिन्] व्याघ्र की एक जाति,
 दीविअ } चीता (गा ७६१, गया १, १—पत्र ६५, परह १, १)।
 दीविअ वि [दीपित] १ जलाया हुआ (पउम २२, १७)। २ प्रकाशित (शोध)।
 दीनिअग पु [दीपिकाङ्ग] कल्पवृक्ष की एक जाति जो अश्वकार को दूर करता है (पउम १०२, १२५)।
 दीपिआ स्त्री [दे] १ उपदेहिका, शुद्ध कीट-विशेष। २ व्याघ्र की हरिणी, जो दूसरे

हरिणों के आकर्षण करने के लिए रखी जाती है (दे ५, ५३)। ३ व्याघ्र-सम्बन्धी पिण्डों में रखा हुआ अतिर पक्षी (गाया १, १७—पत्र २३२)।

दीविआ स्त्री [दीपिका] छोटा दिया, लघु प्रदीप (जीव ३)।

दीविच्चग वि [द्वैप्य] द्वीप में उष्ण, द्वीप में पैदा हुआ (गाया १, ११—पत्र १७१)।

दीवी (अप) देखो देवी (रंभा)।

दीवी स्त्री [दीपिका] लघु प्रदीप, छोटा दिया, 'दीवि च्च तीह बुद्धी' (आ १६)।

दीवूसव पु [दीपोत्सव] कार्तिक वदी अमावस, दीवाली, दीपावली (ती १६)।

दीसत } देखो दक्ख = दृश्।
 दीसमाण }

दीह वि [दीर्घ] १ आयत, लम्बा (ठा ४, २, प्राप्र, कुमा)। २ पुं. दो मानावाला स्वर-

(पिंग)। ३ कोशल देश का एक राजा (उप पृ ५८)। ४ काय [काय] अग्निकाय (आचा०अव्य० १—१—४)। ५ कालिगी स्त्री [कालिकी] सज्ञा-विशेष, बुद्धि-विशेष, जिससे सुदीर्घ भूतकाल की बातों का स्मरण और सुदीर्घ भविष्य का विचार किया जा सकता है (दं ३२, विसे ५०८)। ६ कालिय वि [कालिक] १ दीर्घ काल से उत्पन्न चिरतन, 'दीहकालिएण रोगातकेण' (ठा ३, १)। २ दीर्घकाल-सम्बन्धी (आवम)। ३ जत्ता स्त्री [यात्रा] १ लम्बी सफर। २ मरण, मौत (स ७२६)। ३ डक्क वि [दृष्ट] जिसको साँप ने काटा हो वह (निचू १)। ४ णिहा स्त्री [निद्रा] मरण, मौत (राज)। ५ दंत पु [दन्त] १ भारतवर्ष का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। २ एक जैनमुनि (अत)। ३ दंसि वि [दर्शिन] दूरदर्शी, दूरदेशी (सुर ३, ३, स ३२)। ४ दसा स्त्री व [दशा] जैन ग्रन्थ-विशेष (ठा १०)। ५ दिट्ठि वि [दृष्टि] १ दूरदर्शी, दूरदेशी। २ स्त्री दीर्घ-दशिता (वर्ग १)। ३ पट्ट पु [पृष्ट] १ सर्प, साँप (उप पृ २२)। २ यवराज का एक मन्त्री (बृह १)। ३ पास पु [पार्थ] ऐरवत क्षेत्र के सोलहवें भावी जिन-देव (पव ७)। ४ पैहि वि [प्रेक्षिन्] दूर-

दर्शी (पउम २६, २२, ३१, १०६)। ५ वाहु पुं [वाहु] १ भरत-क्षेत्र में होनेवाला तीसरा वासुदेव (सम १५४)। २ भगवान् चन्द्रप्रभ का पूर्व जन्मीय नाम (सम १५१)। ३ भद्द पु [भद्र] एक जैन मुनि (कप्प)। ४ भद्द वि [भध्व] लम्बा रास्तावाला (गाया १, १८, ठा २, १, ५, २—पत्र २४०)। ५ भद्ध वि [भद्ध] दीर्घकाल से गम्य (ठा ५, २—पत्र २४०)। ६ माड न [याुप्] लम्बा आयुष्य (ठा १०)। ७ रत्त, राय पुन [रात्र] १ लम्बी रात। २ बहु रात्रिवाला, चिर-काल (सवि १७, राज)। ३ राग पु [राज] एक राजा (महा)। ४ लोण पु [लोक] वनस्पति का जीव (आचा)। ५ लोणसस्थ न [लोक-शरू] अग्नि, वहि (आचा)। ६ वेयड्ड पुं [वैताड्य] स्वनाम ध्यात पर्वत (ठा २, ३—पत्र ६६)। ७ सुत्त न [सूत्र] १ बड़ा सूता (निचू ५)। २ आलस्य, 'मा कुणसु दीहसुत्त परकज्ज सीयल परिणत्तो' (पउम ३०, ६)। ८ सेण पु [सेन] १ अनुत्तर-देवलोक-नामी मुनि-विशेष (अनु २)। २ इस अवसर्पिणी काल में उत्पन्न ऐरवत क्षेत्र के आठवें जिन-देव (पव ७)। ३ उ, उद्य वि [याुप्, याुफ] लम्बी उन्नवाला, बड़ी आयुवाला, चिरजीवी (हे १, २०, ठा ३, १, पउम १४, ३०)। ४ सण न [सण] शय्या (ज १)।

दीह देखो दिअह (कुमा)।

दीहध वि [दिवसान्ध] दिन की देवने के असमर्थ, 'रत्तिवा दीहधा' (प्रासू १७६)।

दीहजीह पुं [दे] शख (दे ५, ४१)।

दीहपिड्ड देखो दीह-पट्ट (सिरि ६०५)।

दीहर देखो दीह = दीर्घ (हे २, १७१, १२, २१८, प्रासू ११३)। ३ च्छ वि [क्ष] लम्बी आँखवाला, बड़े नेत्रवाला (सुर १४७)।

दीहरिय वि [दीचित] लम्बा किया हुआ (गडड)।

दीहिया स्त्री [दीर्घिका] बापी, जलाशय-विशेष (सुर १, ६३, कप्प)।

दीहीकर सक [दीर्घी + कृ] लम्बा करना। दीहीकर रति (भग)।

देवकी देखो देवई । १ गणपु पु [०नन्दन] श्रीकृष्ण (वेणी १८३) ।

देवय वि [दैव्य] देव सम्बन्धी (पव १२५) ।

देवय न [दैवत] देव, देवता (सुपा १५७) ।

देवय देखो देव = देव (महा, ख्याया १, १८) ।

देवया ली [दैवता] १ देव, अमर (अभि ११७, अणु) । २ परमेश्वर, परमात्मा (पचा १) ।

देवर देखो दिअर (हे १, १८६, सुपा ४८५) ।

देवराणी देखो देअराणी (दे १, ५१) ।

देवसिय वि [दैवसिक] दिवस-सम्बन्धी (शोध ६२६, ६३६, सुपा ४१६) ।

देवसिआ ली [दैवसिका] एक पतिव्रता ली,

जिसका दूसरा नाम देवसेना था (सुफ ६७) ।

देविद पुं [देवेन्द्र] १ देवो का स्वामी, इन्द्र (हे ३, १६२, ख्याया, १, ८, प्रासू १०७) ।

२ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार (भाव २१) । ३ सूरि पु [सूरि] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार (कम्म ३, २४) ।

देविदय पुं [देवेन्द्रक] देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १२८) ।

देविडिठ ली [देविद्धि] १ देव का वैभव ।

२ पु एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (कम्प) ।

देविय वि [दैविक] देव-सम्बन्धी (सुर ४, २३६) ।

देविल पु [देविल] एक प्राचीन ऋषि (सुस १, ३, ४, ३) ।

देवी ली [देवी] १ देव-ली (पचा २) । २ रानी, राज-पत्नी (विपा १, १, ५) । ३ दुर्गा, पार्वती (कम्प) । ४ सातवें चक्रवर्ती और अठारहवें जिन-देव की माता (सम १५१, १५२) । ५ दशवें चक्रवर्ती की अन्न-महिषी (सम १५२) । ६ एक विद्याधर-कन्या (पञ्च ६, ४) ।

देवीकय वि [देवीकृत] देवी से बनाया हुआ, 'अणिमिसणअणो सन्नलो जीए देवीकओ लोओ' (गा ५६२) ।

देवुकलिआ ली [देवोत्कलिका] देवी की उठ, देवी की भीड़ (ठा ४, ३) ।

देवेसर पुं [देवेश्वर] इन्द्र, देवी का राजा (कुमा) ।

देवोद पुं [देवोद] समुद्र-विशेष (जीव ३, इक) ।

देवोववाय पुं [देवोपपात] भरतक्षेत्र में आगामी उत्सर्पणी काल में होनेवाले तेईसवें जिन-देव (सम १५४) ।

देव्व देखो दिव्व = दिव्य (उप ६८६ टी) ।

देव्व देखो दइव्व (गा १३२, महा, सुर ११, ४, अभि ११७), 'एसो य देवो एणम अणाराहुणीओ विणएण' (स १२८) । ०ज्ज,

०ण, ०णु वि [०ज्ज] जोतिपी, ज्योतिष-शास्त्र को जाननेवाला (पड्, कम्प) ।

देव्वजाणुअ } देखो देव्व-ज्ज (प्राक् १८) ।
देव्वणुअ }

देस पु [देश] एक सौ हाथ परिमित जमीन, 'हृथसय खलु देसो' (पिड ३४४) । ०देस पु [देश] सौ हाथ से कम जमीन (पिड ३४४) । ०राग पु [राग] देश-विशेष (भाचा २, ५, १, ७) ।

देस सक [देशय] १ कहना, उपदेश देना । २ बतलाना । नद्ध देसयत्त (सुपा ४८५, सुर १५, २४८) । संक्क देसित्ता (हे १, ८८) ।

देस पुं [देश] १ अश, भाग (ठा २, २, कम्प) । २ देश, जनपद (ठा ५, ३, कम्प, प्रासू ४२) । ३ अवसर (विसे २०६३) । ४ स्थान, जगह (ठा ५, ३) । ०कहा ली [कथा] जनपद-वार्ता (ठा ४, २) । ०काल देखो थाल (विसे २०६३) । ०जइ पु [यति] श्रावक, उपासक, जैन गृहस्थ (कम्म २ टी, आउ) । ०णु वि [०ज्ज] देश की स्थिति को जाननेवाला (उप १७६ टी) । ०भासा ली [भाषा] देश की बोली (बृह ६) । ०भूसण पु [भूपण] एक केवलजानी महर्षि (पञ्च ३६, १२२) । ०थाल पु [काल] प्रसंग, अवसर, योग्य समय (पञ्च ११, ६३) । ०राय वि [राज] देश का राजा (सुपा ३५२) । ०वगासिय देखो वगासिय (सुपा ५६६) । ०विरइ ली [विरति] श्रावक धर्म, जैन गृहस्थ का ऋत, अणुव्रत, हिंसा आदि का आशिक त्याग (पचा १०) । ०विरय वि [विरत] श्रावक, उपासक । २ न पाँचवाँ

गुण-स्थानक (पव २२) । ०विराहय वि [विराधक] व्रत आदि में आशिक रूपण लगानेवाला (भग ८, ६) । ०विराहि वि [विराधिन] वही अर्थ (ख्याया १, ११—पत्र १७१) । ०वगास न [वगाश] श्रावक का एक ऋत (सुपा ५६२) । ०वगासिय न [वकाशिक] वही अर्थ (श्रौप, सुपा ५६६) । ०हिव पु [धिप] राजा (पञ्च ६६, ५३) । ०हिवइ पु [धिपति] राजा (बृह ४) ।

देस देखो वेस = वेष (रण ३६) ।

देसतरिअ वि [देशान्तरिक] भिन्न देश का विदेशी (उप १०३१ टी, कुप्र ४१३) ।

देसग देखो देसय (द्र २६) ।

देसण न [देशान] कथन, उपदेश, प्रहण (द १) । २ वि उपदेशक, प्रहणक । ली ०णी (वस ७) ।

देसणा ली [देशाना] उपदेश, प्रहण (राज) ।

देसय वि [देशक] १ उपदेशक, प्रहणक (सम १) । २ दिखलानेवाला, बतलानेवाला (सुपा १८६) ।

देसराग वि [देशराग] 'देशराग' देश में बना हुआ, 'देसरागणि वा' (भाचा २, ५, १, ७) ।

देसि वि [देपिन] देव करनेवाला (रण ३६) ।

देसि } वि [देशिन] १ अश्री, आशिक,
देसिअ } भागवाला (विसे २२४७) । २ दिखलानेवाला । ३ उपदेशक (विसे १४२५, भास २८) ।

देसिअ वि [देशिक] देश में उत्पन्न, देश सम्बन्धी (उप ७६८ टी, अणु ६) । ०सइ पु [शब्द] देशीभाषा का शब्द (वजा ६) ।

देसिअ वि [देशित] १ कथित, उपदिष्ट । २ उपदेशित (द २२, प्रासू ५२, १३३, अवि) ।

देसिअ वि [देशिक] बृहल्लोचन्यापी, चित्तपूर्ण (भाचा २, १, ३, ७) ।

देसिअ वि [देशिक] १ पथिक, मुसाफिर (पञ्च २४, १६, उप ५ ११५) । २ उप-देष्टा, गुह (विसे १४२५) । ३ प्रोपित, प्रवास

११२)। 'वह वि [वह] दु ख-प्रद (पउम १५, १००)। 'सिया ली [सिका] वेदना, पीडा (ठा ३, ४)। देखो दुह = दु ख।
 दुखल न [दे] जघन, ली के कमर के पीछे का भाग चूतड (दे ५, ४२)।
 दुखल अक [दु खाय्] १ दुखना, दर्द होना। २ सक. दु खी करना, 'सिर मे दुखवेद' (स ३०४)। दुखामि (से ११, १२७)। दुखति (सूअ २, २, ५५)।
 दुखरड देखो दुकर (चार २३)।
 दुखरण न [दु खन] दुखना, दर्द होना (उप ७५१, सूअ २, २, ५५)।
 दुखरम वि [दु क्षम] १ असमर्थ। २ अशक्य (उत्त २०, ३१)।
 दुखर देखा दुकर (स्वप्न ६६)।
 दुखरिय पुं [दुष्करिक] दास, नौकर (निचू १६)।
 दुखरिया ली [दुष्करिका] १ दासी, नौकरानी (निचू १६)। २ वेश्या, वाराङ्गना (निचू १)।
 दुखरल्लिय (अप) वि [दु खित] दु ख-युक्त (अवि)।
 दुखरविअ वि [दु खित] दु खी किया हुआ (उप ६३४, अवि)।
 दुखराव सक [दु खय्] दु ख उपजाना, दु खी करना। दुख्रावेइ (पि ५५६)। वक दुख्रावेत (पउम ५८, १८)। कवक दुख्राविज्जत (आवम)।
 दुखरावणया ली [दु खना] दु खी करना, दर्द उपजाना (भग ३, ३)।
 दुखिय वि [दु खिन] दु खी, दु ख युक्त (आवा)।
 दुखियअ वि [दु खित] दु ख-युक्त, दुखिया (हे २, ७२, प्राप्र, प्रासू ६३, महा, सुर ३, १६१)।
 दुख्युत्तर वि [दु खोत्तर] जो दु ख से पार किया जाय, जिमको पार करने मे कठिनाई हो (पएह १, १)।
 दुख्युत्तो अ [दु खिस्] दो वार, दो दफा (ठा ५, २—पत्र ३०८)।

दुख्युर देखो दुखुर (पि ४३६)।
 दुख्युल देखो दुखुल (अवि २१)।
 दुख्योह पुं [दु ख्योह] दु ख-राशि (पउम १०३, १५५, सुपा १६१)।
 दुख्योह वि [दु क्षोभ] कष्ट-क्षोभ, सुस्थिर (सुपा १६१, ६२६)।
 दुखड वि [दु खण्ड] दो टुकडेवाला (उप ६८६ टी, अवि)।
 दुखुत्तो देखो दुख्युत्तो (कस)।
 दुखुर पु [दु खुर] दो खुरवाला प्राणी, नौ, भंस आदि (परण १)।
 दुग न [दु ग] दो, युग, युगल, जोडा (नव १०, सुर ३, १७, जी ३३)।
 दुगळ देखो दुगुळ। वक दुगुळमाण (उत्त ४, १३)। क दुगुळणिज्ज (उत्त १३, १६, पि ७४)।
 दुगळणा ली [जुगुप्सना] घृणा, निन्दा (पउम ६५, ६५)।
 दुगळा ली [जुगुप्सा] घृणा, निन्दा (पाअ, कुम ४०७)। देखो दुगुळा।
 दुगध देखो दुग्गध (पउम ४१, १७)।
 दुगच्छ } सक [जुगुप्स] घृणा करना
 दुगुळ } निन्दा करना। दुगच्छइ, दुगु छइ (पड, हे ४, ४)। वक दुगुळत, दुगुळ-माण (कुमा, पि ७४, २१५)। सक दुगुळिउ (धर्म २)। क दुगुळणीय (पउम ४६, ६२)।
 दुगसपुण्ण न [दुगसपूर्ण] लगातार वीस दिन का उपवास (सबोध ५८)।
 दुगुळग वि [जुगुप्सक] घृणा करनेवाला (आव ३)।
 दुगुळण न [जुगुप्सन] घृणा, निन्दा (पि ७४)।
 दुगुळणा देखो दुगुळणा (आवा)।
 दुगुळा देखो दुगुळा (भग)। 'कम्म न [मर्मन्] देखो पीछे का अर्थ (ठा १०)। 'मोहणीय न [मोहनीय] कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव को अशुभ वस्तु पर घृणा होती है (कम्म १)।
 दुगुळि वि [जुगुप्सिन्] घृणा करनेवाला, नफरत करनेवाला (उत्त २, ४, ६, ८)।

दुगुळिय वि [जुगुप्सित] घृणित, निन्दित (शोध ३०२)।
 दुगुदुग पु [दौगुन्दुक] एक समृद्धि-शाली देव (सुपा ३२८)।
 दुगुच्छ देखो दुगुळ। दुगुच्छइ (हे ४, ४, पड)। वक दुगुच्छत (पउम १०५, ७५)। क दुगुच्छणीय (पउम ८०, २०)।
 दुगुण देखो दुउण (ठा २, ४, णाया १, १, ६, सुर ३, २१६)।
 दुगुण सक [दुगुणय्] दुगुणा करना। दुगुणेइ (कुप्र २८५)।
 दुगुणिअ देखो दुउणिअ (कुमा)।
 दुगुळ } देखो दुअळ (हे १, ११६, कुमा-
 दुगुळ } सुर २, ८०, ज २)।
 दुगोत्ता ली [दुगोत्ता] बल्ली विशेष (परण १)।
 दुग्ग न [दे] १ दु ख, कष्ट (दे ५, ५३, पड, पएह १, ३)। २ कटी, कमर (दे ५, ५३)। ३ रण, सग्राम, युद्ध, 'आदत्त च णेणिम दुग्ग' (स ६३६)।
 दुग्ग वि [दुग्ग] १ जहाँ दु ख से प्रवेश किया जा सके वह, दुग्ग स्थान (भग ७, ६ विपा १, ३)। २ जो दु ख से जाना जा सके (सूअ १, ५, १)। ३ पुन किला, गढ, कोट (सुपा १४८)। 'नायग पु [नायक] किले का मालिक (सुपा ४६०)।
 दुग्गइ ली [दुग्गति] १ कुगति, नरक आदि कुस्तित योनि (ठा ३, ३, ५, १, उत्त ७, १८, आवा)। २ विपत्ति, दु ख। ३ दुर्दशा, बुरी अवस्था। ४ कगालियत, दरिद्रता (पएह १, १, महा, ठा ३, ४, गच्छ २)।
 दुग्गठि ली [दुग्गन्थि] दुष्टग्रन्थि, गिरह, कठिन गाठ (पि ३३३)।
 दुग्गध पु [दुग्गन्ध] १ खराब गन्ध। २ वि. खराब गन्धवाला, दुग्गन्धि (ठा ८—पत्र ४१८, सुपा २१, महा)।
 दुग्गधि वि [दुग्गन्धिन्] दुग्गन्धवाला (सुपा ४८७)।
 दुग्गम वि [दुग्गम] जो कठिनाई से जाना जा सके वह (धर्मवि ४)।
 दुग्गम } वि [दुग्गम] १ जहाँ दु ख से
 दुग्गम्म } प्रवेश किया जा सके वह (पउम ४०, १३, शोध ७५ भा), 'पडिवक्खनरिद-

दुष्मोसिअ वि [दुक्षपित] कष्ट से नाशित (आचा) ।

दुष्ट वि [दुष्ट] दोष-युक्त, दूषित (श्लोक १६२; पात्र, कुमा) । °प्य पु [°स्मन्] दुष्ट जीव, पापी प्राणी (पउम ६, १३६, ७५, १२) ।

दुष्ट वि [दे. द्विष्ट] द्वेष-युक्त (श्लोक ७५७, क्म), 'अरत्तदुष्टस्' (कुप्र ३७१) ।

दुष्टाण न [दु स्थान] दुष्ट जगह (भग १६, २) ।

दुष्टु अ [दुष्टु] खराब, अमुन्दर (उप = २० वी, निर १, १, सुपा २१८, हे ४, ४०१) ।

दुष्णय देखो दुष्णय (विक्र ३७, आवम) ।

दुष्णाम न [दुर्नामन्] १ अपकीर्ति, अपयश । २ दुष्ट नाम, खराब आख्या । ३ एक प्रकार का गर्व (भग १२, ५) ।

दुष्णिअ वि [दून] पीडित, दु खित (गा ११) ।

दुष्णिअ देखो दुन्निअ (राज) ।

दुष्णिअथ न [दे] १ जघन पर स्थित वस्त्र । २ जघन, स्त्री के कमर के नीचे का भाग (दे ५, ५३) ।

दुष्णिक्क वि [दे] दुश्चरित, दुराचारी (दे ५, ४५) ।

दुष्णिक्कम वि [दुर्निष्कम] जहाँ से निकलना कष्ट-साध्य हो वह (राज ७, ६) ।

दुष्णिक्कित्त वि [दे] १ दुराचारी । २ कष्ट से जो देला जा सके (दे ५, ४५) ।

दुष्णिक्केव वि [दुर्निक्केव] दु ख से स्थापन करने योग्य (गा १५४) ।

दुष्णिक्केव्ह देखो दुन्निक्केव्ह (राज) ।

दुष्णिग्मिअ वि [दुनियोजित] दु ख से जोड़ा हुआ (मे १२, १६) ।

दुष्णिग्मित्त न [दुर्निमित्त] खराब शकुन, अपशकुन (पउम ७०, ५) ।

दुष्णिग्निदु वि [दुर्निधिष्ट] दुराग्रही, हठी, जिहो (निबू ११) ।

दुष्णिग्सीहिग्ग स्त्री [दुर्निपया] कष्ट-जनक स्थाव्याय-स्थान (परह २, ५) ।

दुष्णेय वि [दुर्जेय] जिसका ज्ञान कष्ट-साध्य हो वह (उवर १२८, उप ३२८) ।

दुष्तिक्क वि [दुस्तिक्क] दुस्वह, जो दु ख से सहन किया जा सके वह (ठा ५, १) ।

दुत्तर वि [दुस्तर] दुस्तरणीय, दुर्लभ्य (सुपा ४७, ११५, सार्धं ६१) ।

दुत्तडी स्त्री [दुस्तटी] १ नदी । २ खराब किनारा वाली नदी (अम्म १२ वी) ।

दुत्तव वि [दुस्तव] कष्ट से तपने योग्य, दु ख से करने योग्य (तप) (वर्मा १७) ।

दुत्तार वि [दुस्तार] दु ख से पार करने योग्य, दुस्तर (से ३, २५, ६, १०) ।

दुत्ति अ [दे] शोध, जल्दी (दे ५, ४१, पात्र) ।

दुत्तिक्कल } देखो दुत्तित्तिकल (आचा,
दुत्तित्तिकल } राज) ।

दुत्तुड पु [दुस्तुड] दुम्ब, दुर्जन, (सुपा २७८) ।

दुत्तोस वि [दुस्तोप] जिसको सतुष्ट करना कठिन हो वह (दस ५) ।

दुत्थ न [दे] जघन, स्त्री की कमर के नीचे का भाग (दे ५, ४२) ।

दुत्थ वि [दु स्थ] दुर्गंत, दु स्थित (ठा ३, ३, भवि) ।

दुत्थ न [दौ स्थ्य] दुर्गति, दु स्थिता (सुपा २४४), 'नहि विधुरसहावा हति दुत्थेवि घीरा' (कुमा ५४) ।

दुत्थिअ वि [दु स्थित] १ दुर्गंत, विपत्ति-ग्रस्त (रयण ७५, भवि, सण) । २ निर्धन, गरीब (कुप्र १४६) ।

दुत्थुस्संख पुत्री [दे] भगडाखोर, कलह-शील (दे ५, ४७) । स्त्री °डा (दे ५, ४७) ।

दुत्थोअ पु [दे] दुर्भंग, अमागा (दे ५, ४३) ।

दुत्त वि [दुर्दान्त] उद्धत, दमन करने को अशक्य, दुर्वम, 'विषयपसत्ता दुत्तइदिया वेहिणो वहवे' (सुर ८, १३८, गाय्या १, ५, सुपा ३८०, महा) ।

दुत्तस वि [दुर्देश] दुरालोक, जो कठिनाई से देखा जा सके (उत्तर १४१) ।

दुत्तसण वि [दुर्देशेण] जिपका दर्शन दुर्लभ हो वह (गा ३०) ।

दुत्तम वि [दुर्दम] १ दुर्जन, दुर्निवार (सुपा २४), 'दुत्तमकहे' (वी १२) । २ पु राजा अश्वघोष का एक दूत (आक) ।

दुत्तम पु [दे] देवर, पति का छोटा भाई (दे ५, ४६) ।

दुद्धि वि [दुर्द्ध] १ बुरी तरह से देखा हुआ । २ वि दुष्ट दर्शनवाला (परह १, २—पत्र २६) ।

दुद्धिण न [दुर्द्धिण] बादलों से व्याप्त दिवस (श्लोक ३६०) ।

दुद्धेय वि [दुर्द्धेय] दु ख से देने योग्य (उप ६२४) ।

दुद्धोलना स्त्री [दे] गौ, गैया (वड्) ।

दुद्धोली स्त्री [दे] वृक्ष-पत्ति, पेड़ों की कतार (दे ५, ४३, पात्र) ।

दुद्ध न [दुग्ध] दूध, क्षीर (विपा १, ७) । °जाइ स्त्री [°जाति] मदिरा-विशेष, जिसका स्वाद दूध के जैसा होता है (जीव ३) ।

°समुद्ध पु [°समुद्ध] क्षीर-तमुद्ध, जिसका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है (गा ३८८) ।

दुद्धस वि [दुर्द्धस] जिसका नाश मुश्किल से हो (सुर १, १२) ।

दुद्धगधिअमुह पु [दे] बाल, शिशु, छोटा लडका (दे ५, ४०) ।

दुद्धगधिअमुही स्त्री [दे] छोटी लडकी (पात्र) ।

दुद्धट्टी } स्त्री [दे] १ प्रसूति के बाद तीन
दुद्धट्टी } दिन तक का गो-दुग्ध (पमा ३२) ।

२ खट्टी छाछ से मिश्रित दूध (पव ४—गा २२८) ।

दुद्धर वि [दुर्द्धर] १ दुर्बल, जिसका निर्वाह मुश्किल से हो सके वह (परण १—पत्र ४, सुर १२, ५१) । २ गहन, विषम (ठा ६, भवि) । ३ दुर्जन (कुमा) । ४ पु रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३०) ।

दुद्धरिस वि [दुर्द्धरिस] १ जिसका सामना कठिनाता से हो सके, जीतने को अशक्य (परह २, ५, कप्प) ।

दुद्धरलेही स्त्री [दे] चावल का आटा डालकर पकाया जाता दूध (पव ४—गाया २२८) ।

दुद्धसाडी स्त्री [दे] ब्राह्मण मिलाकर पकाया जाता दूध (पव ४—गाया २२८) ।

दुद्धिअ न [दे] कद्दू, लौकी, गुजराती में 'दूधो', (पात्र) ।

दुद्धिणिआ } स्त्री [दे] १ तैल आदि रखने
दुद्धिणि } का भाजन, २ तुम्बी (दे ५, ५४) ।

द्वव दुगुण घणणदी भरएण्द (दस १) ।
 णिहि पु [निधि] खजाना, भरएण्द (ठा
 ५, ३) । तिथि वि [तिथिन्] धन का अभि-
 लाषी (रयण ३८) । दत्त पु [दत्त] १
 एक सार्थवाह । २ तृतीय वामुदेव के पूर्व-
 जन्म का नाम (सम १५३, एदि. आवम) ।
 देव पु [देव] १ एक सार्थवाह,
 मरिडक-नणुणर का पिता (आवम, आघू
 १) । २ धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (राया
 १, १८) । पइ देखो वइ (विपा २, १) ।
 पवर पु [प्रवर] एक श्रेष्ठी (महा) ।
 पाल पु [पाल] धन्य सार्थवाह का एक
 पुत्र (राया १, १८) । देखो वाल ।
 पपभा स्त्री [प्रभा] कुएडलघर द्वीप की
 राजधानी (बीव) । मत, मण वि [वत्]
 धनी, धनवान् (पिंग, हे २, १५६, चड) ।
 मित्र पुं [मित्र] एक जैनमुनि (पउम
 २०, १७१) । य पु [य] १ एक सार्थ-
 वाह (सुपा ५०६) । २ एक विद्याघर राजा,
 जो राजा रावण की मौसी का लडका था
 (पउम ८, १२४) । ३ कुबेर (महा) । ४
 वि. धन देनेवाला, 'धणओ घणणियभ्राण'
 (रयण ३८) । रक्खिय पु [रक्खित्त]
 धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (राया १, १८) ।
 वइ पुं [पति] १ कुबेर (राया १, ४—
 पत्र ६६, उप पृ १८०, सुपा ३८) । २ एक
 राजकुमार (विपा २, ६) । वई स्त्री
 [वती] एक सार्थवाह-पुत्री (दस १) ।
 वत्, वत्त देखो मत (हे २, १५६,
 चड) । वह पु [वह] १ एक श्रेष्ठी (दस
 १) । २ एक राजा (विपा २, २) । वाल
 देखो पाल । २ राजा भोज के समकालिक
 एक जैन महाकवि (घण ५०) । सचया
 स्त्री [सचया] एक वणिग्-महिला (महा) ।
 सम्म पु [सम्मन्] एक वणिक् (गच्छ
 २) । सिरी स्त्री [श्री] एक वणिग्-महिला
 (आव ४) । सेण पु [सेण] एक राजा
 (दस ४) । ल वि [वत्] धनी (प्रप्र) ।
 ववह वि [ववह] १ धन को धारण
 करनेवाला, धनी । २ पुं. एक श्रेष्ठी (दस
 ४) । ३ एक राजा (विपा २, २) ।

धणजय पु [धनजय] १ अर्जुन, मध्यम

पाण्डव (वेणी ११०) । २ वहि, अग्नि ।
 ३ सप-विशेष । ४ वायु-विशेष, शरीर-व्यापी
 पवन । ५ वृक्ष-विशेष (हे १, १७७, २,
 १८५, षड्) । ६ उत्तरा भारपदा नक्षत्र का
 गोत्र (इक) । ७ पक्ष का नववाँ दिन (जो
 ४) । ८ श्रेष्ठि-विशेष (आव ४) । ९ एक
 राजा (आवम) ।

धणि पु [धनि] शब्द, आवाज (जिसे
 १५०) ।

धणि स्त्री [धणि] १ सुप्ति, सन्तोष (औप) ।
 २ अतृप्ति उत्पन्न करने की शक्ति, 'भमिवाण-
 वित्तएहयाई' (जिसे १६५३) ।

धणि वि [धनिन्] धनिक, धनवान् (हे २,
 १५६) ।

धणिअ पुं [धनिक] यवन-मत का प्रवर्तक
 पुरुष-विशेष (मोह १०१, १०२) ।

धणिअ वि [धनिक] १ पैसादार, धनी (दे
 १, १४८) । २ पु. मालिक, स्वामी (आ
 १४) ।

धणिअ न [दे] अत्यन्त, गाढ, अतिशय (दे
 ५, ५८, औप, भग, महा, कप्प, सुर १,
 १७५, भत्त ७३, पक्क ८२, जीव ३, उत्त
 १, वव २, स ६६७) ।

धणिअ वि [धन्य] धन्यवाद के योग्य,
 प्रशसनीय, स्तुतिपात्र, 'जाण घणियस्स
 पुरओ निवडति रणम्मि असिवाया' (पउम
 ५६, २५, अचुड ४२) ।

धणिआ स्त्री [दे] १ प्रिया, भार्या, पत्नी
 (दे ५, ५८, गा ५८२, भवि) । २ धन्या,
 स्तुति-पात्र स्त्री (षड्) ।

धणिट्टा स्त्री [धनिट्टा] नक्षत्र-विशेष (सम
 १०, १३, सुर १६, २४६, इक) ।

धणी स्त्री [दे] भार्या, पत्नी । २ पर्याप्ति ।
 ३ जो बैधा हुआ होने पर भी भय-रहित हो
 वह (दे ५, ६२), 'सयमेव मकणीए घणीए
 त ककणी वदा' (कुप्र १८५) ।

धणु पुं [धनुष] १ धनुष, चाप, काष्ठुक
 (पइ, हे १, २२) । २ चार हाथ का
 परिमाण (अणु, जो २६) । ३ पु. परमा-
 धार्मिक देवों की एक जाति (सम २६) ।
 कुडिल न [कुटिलधनुष्] वक्र धनुष
 (राय) । गह पु [गह] वायु-विशेष (वह

३) । द्य पु [ध्वज] नृप-विशेष (ठा
 ८) । धर वि [धर] धनुर्विद्या में निपुण,
 धानुक (राज, पउम ६, ८७) । पिट्ट न
 [पिट्ट] १ धनुष का दृढ़ भाग । २ धनुष
 के पीठ के आकारवाला क्षेत्र (सम ७३) ।
 पुहत्तिया स्त्री [पृथक्त्तिका] दो कोस,
 गव्यति (परण १) । वेअ, व्वेअ पु
 [वेद्] धनुर्विद्या बोधक शास्त्र, ह्यु-शास्त्र
 (उप ६८६ टी, सुपा २७०, ज २) । हर
 देखो वर (भवि) ।

धणु पुन [धनुस्] ज्योतिष प्रसिद्ध एक
 राशि (विचार १०६, सबोध ५४) । ह्र वि
 [मत्] धनुषवाला (प्रह ३५) ।

धणुक्क } ऊपर देखो (एदि, अणु, हे १,
 धणुह } २२, कुमा) ।

धणुही स्त्री [धनुष] काष्ठुक, विसाओ व
 धणुहीओ गुणवदाओवि पयइकुडिलाओ
 (कुप्र २७४, स ३८१) ।

धणोसर पु [धनेश्वर] एक प्रसिद्ध जैनमुनि
 और ग्रन्थकार (सुर १, २४६, १६, २५०) ।

धण्य पु [धन्य] १ एक जैनमुनि । २
 'अनुत्तरोपपातिकदसा' सूत्र का एक ग्रन्थयन
 (अनु २) । ३ यक्ष-विशेष (विपा २, २) ।
 ४ वि. कृतार्थ । ५ धन-लाभ के योग्य । ६
 स्तुति-पात्र, प्रशसनीय । ७ भाग्यशाली,
 भाग्यवाद (राया १, १, कप्प, औप) ।

धण्य देखो धन्न = धान्य (आ १८, ठा ५,
 ३, वव १) ।

धण्यतरि पु [धन्यन्तरि] १ राजा कनकरप
 का एक स्वनाम ह्यात वैय (विपा १, ८) ।
 २ देव-वैद्य (जय २) ।

धण्यारुस वि [दे] १ जिसको आशीर्वाद
 दिया जाता हो वह । २ पु. आशीर्वाद (दे
 ५, ५८) ।

धत्त वि [दे] १ निहित, स्थापित (भावम) ।
 २ पुं. धनस्मृति विशेष (जोव १) ।

धत्त वि [धात्त] निहित, स्थापित (राज) ।

धत्तरह्य पु [धार्तरह्य] हस की एक
 जाति, जिसके मुँह और पाँव काले होते हैं
 (परह १, १) ।

दुष्पधम वि [दुष्प्रधर्ष] दुष्धर्म, दुष्धर्म (उत्त ६, वि ३०५) ।

दुष्पमज्जण न [दुष्प्रमार्जन] ठीक-ठीक सफा नही करना (धर्म ३) ।

दुष्पमज्जिय वि [दुष्प्रमार्जित] अच्छी तरह से सफा नही किया हुआ (सुपा ६१७) ।

दुष्पय देखो दुष्पय = द्विपय (सम ६०) ।

दुष्पधार वि [दुष्प्रधार] जिसका प्रचार दुष्ट माना जाता है वह, अन्याय-युक्त (कप्य) ।

दुष्परककत वि [दुष्परकान्त] बुरी तरह से श्रान्त (आचा) ।

दुष्परिअल्ल वि [दे] १ अशक्य (दि ५, ५५, पात्र, से ४, २६, ६, १८, गा १२२) । २ द्वियुण, दुयुना । ३ अनभ्यस्त, अभ्यास-रहित (दि ५, ५५) ।

दुष्परिइअ वि [दुष्परिचित] अपरिचित (से १३, १३) ।

दुष्परिच्चय देखो दुष्परिच्चय (उत्त ८) ।

दुष्परिणाम वि [दुष्परिणाम] जिसका परिणाम खराब हो, दुर्विपाक (भवि) ।

दुष्परिमास वि [दुष्परिमर्ष] कष्ट-साध्य स्पष्टवाला (से ६, २४) ।

दुष्परियत्तण देखो दुष्परिवत्तण (तदु) ।

दुष्परिल्ल वि [दे] दुराकर्ष, 'भालिहिअ दुष्परिल्लपि येह रएण धएणु बाहो' (गा १२२) ।

दुष्परिवत्तण वि [दुष्परिवत्तन] १ जिसका परिवर्तन दुष्ट से हो सके वह । २ न दुष्ट से पीछे लौटना (तदु) ।

दुष्पवच पु [दुष्पवच्च] दुष्ट प्रपच (भवि) ।

दुष्पवण पु [दुष्पवन] दुष्ट वाणु (भवि) ।

दुष्पवेश वि [दुष्प्रवेश] जहाँ कष्ट से प्रवेश हो सके वह (णया १, १, पउम ४३, १२, स २५, सुपा ४५५) । 'तर वि [तर] प्रवेश करने को अशक्य (परह १, ३—पय ४५) ।

दुष्पमह पु [दुष्प्रसह] पचम आरे के अन्त में होनेवाला एक जैन आचार्य, एक भावी जैन सूरि (उप ८०६) ।

दुष्पस्स वि [दुर्दर्श] जो मुश्किल से दिखलाया जा सके वह (ठा ५, १ टी—पत्र २६६) ।

दुष्पहस वि [दुष्प्रध्वंस्य] जिसका नाश कठिनाई से हो सके वह (णया १, १८—पत्र २३६) ।

दुष्पहस वि [दुष्प्रधृष्य] अजेय, दुर्जेय (णया १, १८) ।

दुष्पह वि [दुष्प्रभ] जो दुष्ट से सूझ सके वह, दुर्गम (मोह ७२) ।

दुष्पाय न [दुष्प्राप] तप-विशेष, आयविल तप (सबोध ५८) ।

दुष्पिउ पु [दुष्पित्त] दुष्ट पिता (सुपा ३८७, भवि) ।

दुष्पिच्छ देखो दुष्पेच्छ (सुर २, ५, सुपा ६२) ।

दुष्पिय वि [दुष्प्रिय] अप्रिय । 'न्मासि वि [भाषिन्] अप्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) । दुष्पुत्त देखो दुष्पुत्त (पउम १०५, ७२, भवि, कुप्र ४०५) ।

दुष्पूर वि [दुष्पूर] जो कठिनाई से पूरा किया जा सके (स १२३) ।

दुष्पेक्ख देखो दुष्पेच्छ (सण) ।

दुष्पेक्खणिज्ज वि [दुष्प्रेक्षणीय] कष्ट से दर्शनीय (जाट—वेणी २५) ।

दुष्पेच्छ देखो दुष्पेच्छ (महा) ।

दुष्पोल्लिय देखो दुष्पउल्लिअ (आ २१) ।

दुष्फड वि [दुष्फट्] मुश्किल से फटने योग्य (त्रि ८३) ।

दुष्फरिस वि [दुष्प्रश] जिसका स्पर्श खराब दुष्फास } हो वह (पउम २६, ४६, १०१, दुष्फास } ७१, ठा ८, भाग) ।

दुष्फास वि [दुष्प्रदर्श] स्निग्ध और शीत आदि अविच्छेद दो स्पर्शों से युक्त (भग) ।

दुष्वद्ध वि [दुर्बद्ध] खराब रीति से बँधा हुआ (आचा २, ६, ३) ।

दुष्वल वि [दुर्वल] निर्बल, बल-हीन (विपा १, ७, सुपा ६०३, प्रासू २३) । 'पच्चव-मित्त पुन [प्रत्यवमित्त] दुर्वल को मदद करनेवाला (ठा ६) ।

दुष्वलिय वि [दुर्वलिक] दुर्वल, निर्बल (भय १२, २) । 'पूसमित्त पु [पुष्य-मित्त] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैन आचार्य (ठा ७, ती ७) ।

दुष्वलिय न [दौर्वल्य] अम, थाक, थकावट (आचा २, ३, २, ३) ।

दुष्बुद्धि वि [दुर्वुद्धि] १ दुष्ट बुद्धिवाला, खराब नियतवाला (उप ७२८, सुपा ४४, ३७६) । २ ब्री खराब बुद्धि, दुष्ट नियत (आ १४) ।

दुष्बोल्ल पु [दे] उपालम्भ, उलहना या उलाहना (दि ५, ४२) ।

दुष्म वि [दुग्ध] दोहा हुआ । २ न दोहन (प्राक् ७७) ।

दुष्म देखो दुह = दुह् ।

दुष्मग वि [दुर्भग] १ कमनसीब, अभागा । २ अप्रिय, अनिष्ट (परह १, २, प्रासू १४३) ।

'णाम, नाम न [नामन्] कर्म-विशेष जिसके उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों को अप्रिय होता है (कम्म १, सम ६७) । 'करा ब्री [करा] दुर्भग बनानेवाली वि । विशेष (सूत्र २, २) ।

दुष्मग्ग न [दौर्भाग्य] दुर्भंगता, अप्रियता (पिड ५०२) ।

दुष्मरण ब्री [दुर्भरणि] दुष्ट से 'होउ अजणणी तेसि दुम्भरणी प वरस्तावि' (सुपा ३७०) ।

दुष्भाव पुं [दुर्भाव] १ हेय पदार्थ (पउम ८६, ६६) । २ असद-भाव, खराब-असर, 'पिसुणेण व जेण कओ दुम्भावो' (सुर ३, १६) ।

दुष्भाव पुं [द्विभाव] विभाग, जूझाई (सुर ३, १६) ।

दुष्भाव पु [द्विभाव] द्विल्ल, दुयुनापन (निदय ६६०) ।

दुष्भासिय न [दुर्भाषित] खराब वचन (पउम ११८, ६७, पहि) ।

दुष्मि पुन [दुर्भि] १ खराब गन्ध (सम ४१) । २ वि अशुभ, खराब, अनुन्दर (ठा १) । ३ वि खराब गन्धवाला, दुर्गन्धि (आचा) । गंध [गन्ध] पूर्वोक्त ही अर्थ (ठा १, आचा; णया १, १२) । 'सद् पुंन. [शब्द] खराब शब्द (णया १, १२) ।

दुष्मिक्ख पुन [दुर्भिक्ष] १ दुष्काल, अकाल, वृष्टि का अभाव (सम ६०, सुपा ३५८), 'आसल्ले रएणगे, मूढे खीते तहेव दुष्मिक्खे ।

धुरा (रागा १, ८) । °नायग देखो °णायग (भग) । °पडिमा स्त्री [°प्रतिमा] १ धर्म की प्रतिमा । २ धर्म का साधन-भूत शरीर (ठा १) । °पण्णत्ति स्त्री [°प्रज्ञप्ति] धर्म की प्ररूपणा (उवा) । °पदिणी (शौ) स्त्री [°प्रत्नी] धर्म-पत्नी, स्त्री, भार्या (अभि २२२) । °पिवासय वि [°पिपासक] धर्म के लिए प्यासा (भग) । [°पिवासिय] वि [°पिपासित] धर्म की प्यासवाला (तट्ट) । °पुरिस पुं [°पुरुष] धर्म-प्रवर्तक पुरुष (ठा ३, १) । °पलज्जण वि [°प्ररञ्जन] धर्म में आसक्त (रागा, १, १८) । °प्यवाइ वि [°प्रवादिन्] धर्मोपदेशक (आचानि १, ४, २) । °प्यह पु [°प्रभ] एक जैन आचार्य (रयण ५८) । °प्यावाउय वि [°प्रावाउक] धर्म-प्रवादी, धर्मोपदेशक (आचानि १, १४, १) । °बुद्धि वि [°बुद्धि] धार्मिक, धर्म-मति । २ पु एक राजा का नाम (उप ७२८ टी) । °मित्त पु [°मित्र] भगवान् पद्मप्रभ का पूर्वभवीय नाम (सम १५१) । °य वि [°द] धर्म-दाता, धर्म देशक (सम १) । °रुइ स्त्री [°रुचि] १ धर्म-प्रीति (धर्म २) । २ वि. धर्म में रुचि-वाला (ठा १०) । ३ पु एक जैन मुनि (विपा १, १, उप ६४८ टी) । ४ वाराणसी का एक राजा (भावम) । °लाभ पु [°लाभ] १ धर्म की प्राप्ति । २ जैन साधु द्वारा दिया जाता आशीर्वाद (सुर ८, १०६) । °लाभिअ वि [°लाभित] जिसको 'धर्मलाभ' रूप आशीर्वाद दिया गया हो वह (स ६६) । °लाह देखो °लाभ (स ३६) । °लाहण न [°लाभन] धर्मलाभ-रूप आशीर्वाद देना, 'कय धम्मलाहण' (स ४६६) । °लाहिअ देखो °लाभिअ (स १४८) । °वत्त वि [°वत्त] धर्मवाला (आचा) । °वय पु [°ज्यय] धर्मार्थं दान, धर्मादा (सुपा ६१७) । °वि, °विउ वि [°वित्त] धर्म का जानकार (आचा) । °विज्ज पु [°वैद्य] धर्मार्थं (पचव १) । °ज्वय देखो °वय (सुपा ६१७) । °सद्धा स्त्री [°श्रद्धा] धर्म-विश्वास (वत्त २६) । °सण्णा देखो °सन्ना (भग ७,

६) । °सत्य न [°शास्त्र] धर्म प्रतिपादक शास्त्र (दस ४) । °सन्ना स्त्री [°सन्ना] १ धर्म-विश्वास । २ धर्म-बुद्धि (परह १, ३) । °सारहि पु [°सारथि] धर्मार्थ का प्रवर्तक, धर्म-देशक (वण २७, पडि) । °साला स्त्री [°शाला] धर्म-स्थान (कट ३३) । °सील वि [°शील] धार्मिक (सूम २, २) । °सीह पुं [°सिह] १ भगवान् अभिनन्दन का पूर्वभवीय नाम (सम १५१) । २ एक जैन मुनि (सथा ६६) । °सेण पु [°सेन] एक बलदेव का पूर्वभवीय नाम (सम १५३) । °इगर वि [°दिक्कर] धर्म का प्रथम प्रवर्तक । २ पु जिन-देव (धर्म २) । °णुट्टाण न [°नुट्टान] धर्म का आचरण (धर्म १) । °णुण्ण वि [°नुज्ज] धर्म का अनुमोदन करनेवाला (सूम २, २, रागा १, १८) । °णुय वि [°णुग] धर्म का अनुसरण करने-वाला (श्रौप) । °यरिय पु [°चार्य] धर्म-दाता गुरु (सम १२०) । °वाय पु [°वाद] १ धर्म-वर्चा । २ वारहवां जैन अग-ग्रन्थ, दृष्टिवाद (ठा १०) । °हिगरणिय पुं [°धिकरणिक] न्यायाधीश, न्यायकर्त्ता (सुपा ११७) । °हिगारि वि [°धिकारिन्] धर्म-ग्रहण के योग्य (धर्म १) ।

धम्म वि [धर्म्य] धर्म-युक्त धर्म-सगत, 'ज पुण तुम कहसि तमेव धम्म' (महानि ४, द्र ४१) ।

धम्ममण पु [दे] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी, पउम ४२, ६) ।

धम्ममाण देखो वम ।

धम्मय पु [दे] १ चार अंगुल का हस्त-व्रण । २ चण्डी देवी की नर-वलि (दे ५, ६३) ।

धम्मि वि [धर्मिन्] १ धर्म-युक्त, द्रव्य, पदार्थ । २ धार्मिक, धर्म-परायण (सुपा २६, ३३६, ५०६, वज्जा १०६) ।

धम्मि वि [धर्मिन्] तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध पक्ष (धर्मस ६६) ।

धम्मिअ वि [धार्मिक] १ धर्म तत्पर, धर्म-धम्मिग } परायण (गा १६७, उप ८६२, परह २, ४) । २ धर्म-सम्बन्धी (उप २६४, पचा ६) । ३ धार्मिक-सम्बन्धी (ठा ३, ४) ।

धम्मिट्ट वि [धर्मिष्ठ] अतिशय धार्मिक (श्रौप सुपा १४०) ।

धम्मिट्ट वि [धर्मिष्ठ] धर्म-प्रिय (श्रौप) ।

धम्मिट्ट वि [धर्मिष्ठ] धार्मिक जन को प्रिय (श्रौप) ।

धम्मिल्ल पुंन [धम्मिल्ल] १ सयत केश, धम्मिल्ल } बँधा हुआ केश, छिपों के बाँधे हुए बाल की 'पटिया या झुवा', बीच में फूल रखकर ऊपर से मोतियों की या अन्य किसी रत्न की लड्डियों से बँधा हुआ केश-कलाप (प्राप्र, षड्, सक्ति ३) । २ पु एक जैन मुनि (भाव ६) ।

धम्मीसर पु [धर्मेश्वर] अतीत उत्सर्पिणीकाल में भरतवर्ष में उत्पन्न एक जिन-देव (पव ७) ।

धम्मुत्तर वि [धर्मोत्तर] १ शुणी, शुणी से श्रेष्ठ (आचू ५) । २ न धर्म का प्राधान्य, 'धम्मुत्तर वड्ड' (पडि) ।

धम्मोवएसग वि [धर्मोपदेशक] धर्म का धम्मोवएसय } उपदेश देनेवाला (रागा १, १६, सुपा १७२, धर्म २) ।

धय सक [धे] पाल करना, स्तन-पान करना । वक्क धयत (सुर १०, ३७) ।

धय पु स्त्री [ध्वज] ध्वजा, पताका (हि २, २७, रागा १, १६, परह १, ४, गा ३४) । स्त्री °या (पिंग) । °वड पु [°पट] ध्वजा का वक्र (कुमा) ।

धय पु [दे] नर, पुरुष (दे ५, ५७) ।

धयण न [दे] गृह, घर (दे ५, ५७) ।

धयरट्ट पु [धृतराष्ट्र] हंस पक्षी (पाप्र) ।

धर सक [धृ] १ धारण करना । २ पकड़ना ।

धरइ, धरेइ (हि ४, २३४, ३३६) । कर्म-

धरिज्जइ (पि ५३७) । वक्क धरत, धरमाण

(सण, भवि, गा ७६१) । कवक्क धरत,

धरत, धरिज्जत, धरिज्जमाण (से ११,

१२७, १४, ८१, राज, परह १, ४, श्रौप) ।

सह धरिउ (कुप ७) । क्क धरियव्व

(सुपा २७२) ।

धर सक [धरय्] धृषिदी का पालन करना ।

वक्क धरत (सुर २, १३०) ।

धर न [दे] तुल, हई (दे ५, ५७) ।

धर पु [धर] १ भगवान् पद्मप्रभ का पिता

(सम १५०) । २ मथुरा नगरी का एक राजा

(रागा १, १६) । ३ पर्वत, पहाड़ (से ८,

६३; पाप्र) ।

°धर वि [°धर] धारण करनेवाला (कम्प) ।

दुरणुचर वि [दुरनुचर] जिसका अनुष्ठान कठिनाता से हो सके वह, दुष्कर, 'एसो जईएण धम्मो दुरणुचरो मवसत्ताए' (सुर १४, ७५, ठा ५, १—पत्र २६६, णाया १, १)।
 दुरणुपाल वि [दुरनुपाल] जिसका पालन कष्ट-साध्य हो (उत्त २३)।
 दुरप्प पु [दुरात्मन्] दुष्ट आत्मा, दुर्जन (उव, महा)।
 दुरग्भास पु [दुरभ्यास] खराब आदत (मुपा १६७)।
 दुरभि देखो दुब्धि (अणु, पउम २६, ५०, १०२, ४४, पएह २, ५, आचा)।
 दुरभिगम वि [दुरभिगम] १ जहाँ दु ख से गमन हो सके वह, कष्ट-गम्य (ठा ३, ४)। २ दुर्बोध, कष्ट से जो जाना जा सके (राज)।
 दुरमच्च पु [दुरमास्य] दुष्ट मत्री (कुप्र २६१)।
 दुरवगम वि [दुरवगम] दुर्बोध (कुप्र ४८)।
 दुरवगम्म देखो दुरवगम (वेइय २५६)।
 दुरवगाह वि [दुरवगाह] दुष्प्रवेश, जहाँ प्रवेश करना कठिन हो वह (हे १, २६, सम १४५)।
 दुरस वि [दुरस] खराब स्वादवाला (भग, णाया १, १२, ठा ८)।
 दुरसण पु [दुरिसन] १ सर्प, सर्प। २ दुर्जन, दुष्ट मनुष्य (मुपा ५६७)।
 दुरहि देखो दुरभि (उप ७२८ टी, तदु)।
 दुरहिगम देखो दुरभिगम (सम १४५, विसे ६०६)।
 दुरहिगम्म वि [दुरभिगम्य] दु ख से जानने योग्य, दुर्बोध, 'अत्यगई वि अ नयवायगहण-लीणा दुरहिगम्मा' (सम्म १६१)।
 दुरहिग्वास वि [दुरध्यास, दुरधिसह] दुस्सह, जो कष्ट से सहन किया जा सके (णाया १, १, आचा, उप १०३१ टी, स ६५७)।
 दुराणण पु [दुरानन] विद्याधर वरा का एक राजा (पउम ५, ४५)।
 दुराणुवत्त वि [दुरनुवर्त] जिसका अनुवर्तन कष्ट-साध्य हो वह (वव ३)।
 दुराय न [दुरात्र] दो रात (ठा ५, २, कच)।

दुरायार वि [दुराचार] १ दुराचारी, दुष्ट आचरणवाला (सुर २, १६३, १२, २२६, वेणी १७१)। २ पु दुष्ट आचरण (भवि)।
 दुरायारि वि [दुराचारिन्] ऊपर देखो (भवि)।
 दुराराह वि [दुराराध] जिसका आराधन दु ख से हो सके वह (कप्प)।
 दुरारोह वि [दुरारोह] जिस पर दु ख से चढा जा सके वह, दुरध्यास (उत्त २३, गा ४६८)।
 दुरालोअ पुं [दे] तिमिर, अन्धकार (दे ५, ४६)।
 दुरालोअ वि [दुरालोक] जो दु ख से देखा जा सके, देखने को अशक्य (से ४, ८, कुमा)।
 दुरालोयण वि [दुरालोकन] ऊपर देखो, 'दुरालोयणो दुम्महो रत्तनेतो' (भवि)।
 दुरावह वि [दुरावह] दुर्धर, दुर्बल (पउम ६८, ६)।
 दुरास वि [दुरास] १ दुष्ट आशावाला। २ खराब इच्छावाला (भवि, सक्ति १६)।
 दुरामय वि [दुराशय] दुष्ट आशयवाला (मुपा १३१)।
 दुरासय वि [दुराश्रय] दु ख से जिसका आश्रय किया जा सके वह, आश्रय करने को अशक्य (पएह १, ३, उत्त १)।
 दुरासय वि [दुरासद] १ दुष्प्राप्य, दुर्लभ। २ दुर्जन्य। ३ दु सह (वस २, ६, राज)।
 दुरिअ न [दुरित] पाप (पात्र, मुपा २४३)।
 दुरिअ न [दे] द्रुत, शीघ्र, जल्दी (षड्)।
 दुरिआरि ली [दुरितारि] भगवान् सभवनाथ की शासनदेवी (सति ६)।
 दुरिक्ख वि [दुरीक्ष] देखने को अशक्य (कुमा)।
 दुरिट्ट न [दुरिष्ट] खराब नक्षत्र (वसनि १, १०५)।
 दुरिट्ट न [दुरिष्ट] खराब यजन—याग (वसनि १, १०५)।
 दुरुक्क वि [दे] थोडा पीसा हुआ, ठीक ठीक नहीं पीसा हुआ (आचा २, १, ८)।
 दुरुडुल्ल सक [अम्म] १ भ्रमण करना, घूमना। २ गँवाई हुई चीज की खोज में घूमना। वक्क दुरुडुल्लंत (सुर १५, २१२)।

दुरुत्त न [दुरुत्त] दुष्टोक्ति, दुष्ट वचन (सार्ध १०१)।
 दुरुत्त वि [द्विरुत्त] १ दो बार कहा हुआ, पुनरुक्त। २ दो बार कहने योग्य (रभा)।
 दुरुत्तर वि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुर्लभ्य (सूत्र १, ३, २)। २ न. दुष्ट उत्तर, अयोग्य जवाब (हे १, १४)।
 दुरुत्तर वि [द्वि-उत्तर] दो से अधिक। १ सय वि [१शततम] एक सौ दो नाँ, १०२ नाँ (पउम १०२, २०४)।
 दुरुत्तार वि [दुरुत्तार] दु ख से पार करने योग्य (मुपा २६७)।
 दुरुद्धर वि [दुरुद्धर] जिसका उद्धार कठिनाई से हो वह (सूत्र १, २, २)।
 दुरुवणीय वि [दुरुपनीत] जिसका उपनय दूषित हो ऐसा (उदाहरण) (वसनि १)।
 दुरुवयार वि [दुरुपचार] जिसका उपचार कष्ट-साध्य हो वह (तदु)।
 दुरुव्वा ली [दुर्वा] तृण-विशेष, दूब (स १२४, उप ३१८)।
 दुरुह सक [आ+रुह] आरुह होना, चढना। दुरुहइ (पि ११८, १३६)। वक्क दुरुहमाण (आचा २, ३, १)। सक-दुरुहित्ता, दुरुहित्तानं, दुरुहेत्ता (भग, महा, पि ५८३, ४८२)।
 दुरुठ वि [आरुठ] अविच्छेद, ऊपर चढा हुआ (णाया १, १, २, १, औप)।
 दुरुव वि [दुरुव] १ खराब रूपवाला, कुरूप, कुबौल (ठा ८, आ १६)। २ मलमूत्र का कदम (सूत्रक० दूर्णी गा० ३१७)।
 दुरुव वि [दुरुव] अशुचि आदि खराब वस्तु (सूत्र १, ५, १, २०)।
 दुरुह देखो दुरुह। सक दुरुहित्तु, दुरुहिया (सूत्र १, ५, २, १५), 'जहाँ आसा-विरिण नाव जाइअवो दुरुहिया' (सूत्र १, ११, ३०)।
 दुरुहण न [आरोहण] अविरोहण, ऊपर चढ बैठना (स ५१)।
 दुरेह पु [द्विरेफ] अमर, भौरा (पात्र, हे १, ६४)।
 दुरोअर न [दुरोदर] जुआ, दूत (पात्र)।
 दुरोदर देखो दुरोअर (कर्पूर २५)।

धसिअ वि [धसित] घसा हुमा (हमीर १३) ।

धा सक [धा] धारण करना । धाह, धामह धामए (षड्) । कर्म, धीयए (पिड) ।

धा सक [धै] ध्यान करना, चिन्तन करना । धाम्रति (सक्ति ७६) ।

धा सक [धाव्] १ दौडना । २ शुद्ध करना, घोना । धाह, धामह (हे ४, २४०) । भवि धाहिह (षड्) ।

धाइअ वि [धावित] दौडा हुमा (से न, ६८, भवि) ।

धाइअसड देखो धायइ-सड, (महा) ।

धाई देखो धत्ती (हे २, ८१, पव ६७) । ४ धाई का काम करने से प्राप्त की हुई भिक्षा (ठा ३, ४) । ५ छन्द-विशेष (पिग) । ०पिड पु [०पिण्ड] धाई का काम कर प्राप्त की हुई भिक्षा (पव ६७) ।

धाई देखो धायइ, (उप ६४८ टी) ।

धाउ पु [धातु] १ सोना, चाँदी, तावा, लोहा, रांगा, सीसा और जस्ता ये सात वस्तु (जी ३) । २ गेह, मनसिल आदि पदार्थ (से ४, ४, परह १, २) । ३ शरीर-धारक वस्तु—कफ, वात, पित्त, रस, रक्त, मांस, मेद, आस्थि, मजा और शुक्र (श्रीप, कुप्र १५८) । ४ पृथिवी, जल, तेज और वायु ये चार महाभूत (सूत्र १, १, १) । ५ व्याकरण प्रसिद्ध शब्द-योनि, 'भू', 'पच्' आदि (अणु) । ६ स्वभाव, प्रकृति (स २४१) ।

७ नाट्य शास्त्र-प्रसिद्ध आलतिका-विशेष (कुमा २, ६६) । ८ य वि [०ज] १ धातु से उपपन्न । २ वल्ल-विशेष (पचभा) । ३ नाम, शब्द (अणु) । ४ धाइअ वि [०वादिक्] औषधि आदि के योग से ताम्र आदि को सोना वगैरह बनानेवाला, किमियागर (कुप्र ३६७) ।

धाउ पु [धातु] परापनि नामक व्यन्तर देवो का एक इन्द्र (ठा २, ३) ।

धाउसोसण न [धातुशोपण] आयबिल तप (सवोष ५८) ।

धाड अक [निर + स] बाहर निकलना । धाडह (हे ४, ७६) ।

धाड सक [निर + सारय्] बाहर निकालना । सक धाडिऊण (कुप्र ८३) । कवक धाडिऊत (पउम १७, २८, ३१, ११६) ।

धाड सक [धाट्] प्रेरणा करना । २ नाश करना । धाडति (सूत्रनि ७०) । कवक धाडीयत (परह १, ३—पत्र ५४) ।

धाडण न [धाटन] बाहर निकालना (वव ४) ।

धाडण न [धाटन] १ प्रेरणा । २ नाश (श्रीप) ।

धाडय वि [दे ट्राटक] डाका डालनेवाला, 'धाडयपुरिसा हया तथ्य' (सिरि ११४६) ।

धाडाधिअ वि [निस्सारित] बाहर निकाली हुमा, निर्वासित (पउम २२, ८) ।

धाडि वि [दे] निरस्त, निराकृत (दे ५, ५६) ।

धाडिअ वि [नि सूत] बाहर निकला हुमा (कुमा) ।

धाडिअ पु [दे] आराम, बगीचा (दे ५, ५६) ।

धाडिअ वि [निस्सारित] निर्वासित, बाहर निकाला हुमा (पउम १०१, ६०, स २६८, उप ७२८ टी) ।

धाडी ली [धाटी] १ डाकुमो का दल (सुर २, ४, प्राह) । २ हथला, आक्रमण, धावा (कप्यु) ।

धाण देखो धणण = धन्य (वजा ६०) ।

धणा ली [धाना] धनिया, एक प्रकार का मसाला (दे ७, ६६, प्राह) ।

धाणुक्क वि [धानुक्क] धनुर्धर, धनुर्विद्या से निपुण (उप पृ ८६, सुर १३, १६२, वेणी ११४, कुप्र ४५२) ।

धाणूरिअ न [दे] फल-भेद (दे ५, ६०) ।

धाम पुन [धामन्] अहकार, गर्व । २ रस आदि में लम्पटता । ३ वि गर्व-युक्त । ४ रस आदि में लम्पट (सवोष १६) ।

धाम न [धामन्] बल, पराक्रम (आरा ६३, सण) ।

धाय वि [धात] १ वृत्त, सतुए (शोच ७७ भा, सुर २, ६७) । २ न सुम्भ, सुकाल (वृह ५) ।

धामइ } ली [धातकी] वृत्त-विशेष, धाय
धायइ } का पेट (परण १, पउम ५३, ७६, ठा २, ३, सम १५२) । ४ खड पु [०खण्ड] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (ठा २, ३, अणु) । ०सड पु [०षण्ड] स्वनाम-ख्यात एक द्वीप (जीव ३, ठा ८, इक) ।

धार सक [धारय्] १ धारण करना । २ करजा रखना । धारेइ (महा) । वक धारंत, धारअत, धारेमाण, धारयमाण, धारित (सुर ३, १८६, नाट—विक्र १०६, भग, सुपा २५४, २६४) । हेक धारिइ, धारेत्तए, धारित्तए, (पि ५७३, कस, ठा ५, ३) । क धारणिज्ज, धारणीय, धारे-यव्व (आया १, १, भग ७, ६, सुर १४, ७७, सुपा ४८२) ।

धार न [धार] १ धारो-सवन्वी जल । २ वि धारण करनेवाला (राज) ।

धार वि [दे] लघु, छोटा (दे ५, ५६) ।

धारग वि [धारक] धारण करनेवाला (कप्य उप पृ ७५, सुपा २५४) ।

धारण न [धारण] १ धारने की अवस्था । २ ग्रहण । ३ रक्षण, रखना । ४ परिवान करना । ५ अवलम्बन (श्रीप, ठा ३, ३) ।

धारणा ली [धारणा] १ मर्यादा, स्थिति (आवम) । २ विषय ग्रहण करनेवाली बुद्धि (ठा ८, दस ५) । ३ ज्ञात विषय का अविस्मरण (चित्ते २६१) । ४ अवधारण, निश्चय (आवम) । ५ मन की स्थिरता । ६ धर का एक अवयव, धरनी या धरन (भग ८, २) । ०ववहार पु [न्यवहार] व्यवहार-विशेष (ठा ५, २) ।

धारणा ली [धारणा] मकान का खण, धरन (आचा २, २, ३, १ टी, पव १३३) ।

धारणिज्ज देखो धार = धारय् ।

धारणी ली [धारणी] १ धारण करनेवाली (श्रीप) । २ ग्यारहवें जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२) । ३ वसुदेव आदि अनेक राजाओं की रानी का नाम (अंत, आचू १, विपा २, १, आया १, १) ।

धारणीय देखो धार = धारय् ।

धारय देखो धारग (शोच १, भवि) ।

धारयमाण देखो धार = धारय् ।

दुव्वसु वि [दुर्व्वसु] अमव्य, खराव द्रव्य (आचा) । मुण्णि पु [मुनि] मुक्ति के लिए अयोग्य साधु (आचा) ।

दुव्वह वि [दुर्व्वह] दुर्धर, जिसका वहन कठिनाई से हो सके वह (स १६१, सुर १, १४) ।

दुव्वा देखो दुरुव्वा (कुमा, सुर १, १३८) ।

दुव्वाइ वि [दुर्वादिन्] अप्रियवक्ता (दस ६, २) ।

दुव्वाय पु [दुर्वाक्] दुर्वचन, दुष्ट उक्ति, 'वयणेएवि दुव्वाओ न य कायवो परस्स पीडयरो' (पचम १०३, १४३) ।

दुव्वाय पु [दुर्वात्] दुष्ट पवन (सुमि ४) ।

दुव्वार वि [दुर्व्वार] दु ख से रोकने योग्य, अवायं (से १२, ६३, उप ६८६ टी, सुपा १६७, ४७१, अमि ११६) ।

दुव्वारिअ देखो दुव्वारिअ = दौवारिक (प्राप्र) ।

दुव्वाली बी [दे] वृक्ष-मक्ति (प्राप्र) ।

दुव्वास पु [दुर्वासस्] एक ऋषि (अमि ११८) ।

दुव्विअड वि [दुर्व्विष्ट] परिधान वर्जित, नग्न, नगा (ठा ५, २—पत्र ३१२) ।

दुव्विअड्ड वि [दुर्व्विदग्ध] ज्ञान का भूटा
दुव्विअद्ध } अभिमान करनेवाला, दुश्शिक्षित
(प्राप्र, गा ६५) ।

दुव्विजाणय वि [दुर्व्विज्ञेय] दु ख से जानने योग्य, जानने की अशक्य, 'अकुसलपरिणाम-मद्वुद्धिजणदुव्विजाणए' (परह १, १) ।

दुव्विहप्प वि [दुर्व्विह] दु ख से अज्ञान करने योग्य, कठिनाई से कमाने योग्य (कुप्र २३८) ।

दुव्विणीअ वि [दुर्व्विनीत] अविनीत, उद्वत (पचम ६६, ३५, काल) ।

दुव्विण्णाय वि [दुर्व्विण्ण] असत्य रीति से जाना हुआ (आचा) ।

दुव्विभज देखो दुविभज (राज) ।

दुव्विभव वि [दुर्व्विभाव्य] दुर्लक्ष्य, दु ख से जिसकी आलोचना हो सके वह (ठा ५, १ टी—पत्र २६६) ।

दुव्विभाव वि [दुर्व्विभाव] ऊपर देखो (विसे) ।

दुव्विलसिय न [दुर्व्विलसित] १ स्वच्छन्दी विलास । २ निकृष्ट कार्य, जघन्य काम, नीच काम (उप १३६ टी) ।

दुव्विसह वि [दुर्व्विषह] अत्यन्त दु सह, असह्य (गा १४८, सुर ३, १४४, १४, २१०) ।

दुव्विसोज्झ वि [दुर्व्विशोध्य] शुद्ध करने को अशक्य (पचा १७) ।

दुव्विहिअ न [दुर्व्विहित] दुष्ट अनुष्ठान (दसच् १, १२) ।

दुव्विहिय वि [दुर्व्विहित] १ खराव रीति से किया हुआ, 'दुव्विहियविलासिय विहियो' (सुर ४, १५, ११, १४३) । २ असुविहित, अयशस्वी (आव ३) ।

दुव्वोज्झ वि [दुर्व्वोह] दुर्वह, दु ख से होने योग्य (से ३, ५, ४, ४४, १३, ६३, वजा ३८) ।

दुव्वोज्झ वि [दे] दुर्घात्य, दु ख से मारने योग्य (से ३, ५) ।

दुसंकड न [दुस्सकट] विषम विपत्ति (भवि) ।

दुसचर देखो दुस्सचर (भवि) ।

दुसथ वि [दुस्सथ] दो बार सुनने से ही उसे अच्छी तरह याद कर लेने की शक्तिवाला (धर्मस १२०७) ।

दुसन्नप्प वि [दुस्सन्नाप्प] दुर्बोध्य (ठा ३, ४—पत्र १६५) ।

दुसमदुसमा देखो दुस्समदुस्समा (भग ६, ७) ।

दुसमसुसमा देखो दुस्समसुसमा (ठा १) ।

दुसमा देखो दुस्समा (भग ६, ७, भवि) ।

दुसह देखो दुस्सह (हे १, ११५, सुर १२, १३७, १३६) ।

दुसाह वि [दुस्साध] दु साध्य, कष्ट-साध्य (पचम ८६, २२) ।

दुसिक्खिअ वि [दुश्शिक्षित] दुर्विदग्ध (पचम २५, २१) ।

दुसुमिण देखो दुस्सुमिण (पडि) ।

दुसुरुह्य न [दे] गले का आभूषण-विशेष (स ७६) ।

दुस्स सक [दुस्सिप्] द्वेष करना । वक्र, दुस्समाण (सुप्र १, १२, २२) ।

दुस्सलण न [दुस्सलकुण] अपशकुण (सुमि २०) ।

दुस्सचर वि [दुस्सचर] जहाँ दु ख से जाया जा सके, दुर्गम (स २३१, सखि १७) ।

दुस्सचार वि [दुस्सचार] ऊपर देखो (सुर १, ६६) ।

दुस्संत पु [दुष्पयन्त] चन्द्रवशीय एक राजा, शकुन्तला का पति (पि ३२६) ।

दुस्सबोह वि [दुस्संबोध] दुर्बोध्य (आचा) ।

दुस्सवम्म वि [दुस्साध्य] दुष्कर (सुपा ८, ५६६) ।

दुस्सण्णप्प देखो दुस्सण्णप्प (बृह ४) ।

दुस्सत्त वि [दुस्सत्त्व] दुरात्मा, दुष्ट जीव (पचम ८७, ६) ।

दुस्सन्नप्प देखो दुस्सन्नप्प (कस) ।

दुस्समदुस्समा बी [दुष्पमदुष्पमा] काल-विशेष, सर्वाधम काल, अवसर्पिणी काल का छठवाँ और उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, इसमें सब पदार्थों के गुणों की सर्वोत्कृष्ट हानि होती है, इसका परिमाण एकवीस हजार वर्षों का है (ठा १, ६, इक) ।

दुस्समदुस्समा बी [दुष्पमसुष्पमा] वेया-लीस हजार कम एक कोटाकोटि सागरोपम का परिमाणवाला काल-विशेष, अवसर्पिणी काल का चतुर्थ और उत्सर्पिणी काल का तीसरा आरा (कप्प, इक) ।

दुस्समा बी [दुष्पमा] १ दुष्ट काल । २ एकवीस हजार वर्षों के परिमाणवाला काल-विशेष, अवसर्पिणी-काल का पाँचवाँ और उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा (उप ६४८, इक्) ।

दुस्समाण देखो दुस्स ।

दुस्सर पुं [दुस्सर] १ खराव आवाज, कुत्सित कण्ठ । २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से स्वर कर्ण-कट्ट होता है (कम्म १, २७, नव १५) । ३ नाम, नाम न [नामन्] दु स्वर का कारण-भूत कर्म (पच, सम ६७) ।

दुस्सल वि [दुस्सल] दुर्विनीत, अविनीत (बृह १) ।

दुस्सह वि [दुस्सह] जो दुख से सहन हो सके, असह्य (स्वप्न ७३, हे १, १३, ११५, पड्) ।

धी छी [धी] बुद्धि, मति (पात्र, राया १, १६; कुप्र ११६, २४७, प्रासू २०) । धुण वि [धुण] ? बुद्धिमान, विद्वान् । २ पु एक मन्त्री का नाम (उप ७६८ टी) । °म, °भत वि [°मत्] बुद्धिशाली, विद्वान् (उप ७२८ टी, कप्प, राज) ।

धी म [धिक] धिक्कार, छी (उव, वै ५५) ।

धीआ छी [दुहिट्ट] लडकी, पुत्री (मूच्छ १०६, पि ३६२, महा, भवि, पच्च ४२) ।

धीइ देखो धिइ, 'नुच्छा गारखकलिया चलि-दिया दुव्वला य धीईए' (पव ६२ टी) ।

धीउल्लिया छी [दे] पुतली (स ७३७) ।

धीमल न [धिड्मल] निन्दनीय मैल (तडु ३८) ।

धीर अक [धीरय्] ? धीरज धरना । २ सक धीरज देना, आश्वासन देना । धीरंत (गउड) ।

धीर वि [धीर] ? धैर्यवाला, सुस्थिर, अ-चञ्चल (से ४, ३०, गा ३६७, ठा ४, २) । २ बुद्धिमान, परिश्रित, विद्वान् (उप ७६८ टी, कर्म २) । ३ विवेकी, शिष्ट (सूत्र १, ७) । ४ सहिष्णु (सूत्र १, ३, ४) । ५ पु परमेश्वर, परमात्मा, जिन-देव । ६ गणधर-देव (आचा; आन ४) ।

धीर न [धैर्य] धीरज, धीरता (हे २, ६४, कुमा) ।

धीरव सक [धीरय्] सान्त्वना देना, बिलासा देना । कर्म धीरविज्जति (कुप्र २७३) ।

धीरवण न [धीरण] धीरज देना, सान्त्वना (वव १) ।

धीरविय वि [धीरित] जिसको सान्त्वना दो गई हो वह, आश्वासित (स ६०४) ।

धीराअ अक [धीराय्] धीर होना, धीरज धरना । वक्क धीराअत (से १२, ७०) ।

धीराविअ देखो धीरविय (पि ५५६) ।

धीरिअ देखो धीर = धैर्य (हे २, १०७) ।

धीरिअ देखो धीरविय (भवि) ।

धीरिम पुत्ती [धीरत्व] धैर्य, धीरज (उप पु ६२, सुपा १०६, भवि, कुप्र १५०) ।

धीवर पु [धीवर] ? मखलीमार, अछुमा, मल्लाह, जालजीवी (कुमा; कुप्र २४७) । २ वि उत्तम बुद्धिवाला (उप ७६८ टी, कुप्र २४७) । धुअ देखो धुव = धाव । धुअइ (गा १३०) । धुअ सक [धु] ? कँपाना । २ फँकना । ३ त्याग करना । वक्क धुअमाण (से १४, ६६) ।

धुअ वि धुव = धुव (भवि) । छन्द-विशेष (पिग) ।

धुअ वि [धूत] ? कम्पित । २ न कम्प (प्राक्क ७०) ।

धुअ वि [धुत] ? कम्पित (गा ७८, दे १, १७३) । २ त्यक्त (श्रीप) । ३ उच्छलित (से ४, ४) । ४ न कर्म (सूत्र २, २) । ५ मोक्ष, मुक्ति (सूत्र १, ७) । ६ त्याग, सग त्याग, समय (सूत्र १, २, २, आचा) । °वाय पु [°वाद] कर्म-नाश का उपदेश (आचा) ।

धुअगाय पु [दे] अमर, भौरा, भमरा (दे ५, ५७, पात्र) ।

धुअण देखो धुवण (पव १०१) ।

धुअराय पु [दे] ऊपर देखो (पड) ।

धुधुमार पुं [धुधुमार] नृप-विशेष (कुप्र २६३) ।

धुधुमारा छी [दे] इन्द्राणी, शची (दे ५, ६०) ।

धुक्क अक [धुक्] भूख लगना । धुक्कइ (प्राक्क ६३) ।

धुक्काधुक्क अक [कम्प] कँपाना, 'धुक् धुक्' होना । धुक्काधुक्कइ (गा ५८३) ।

धुक्कुइ धुअ } वि [दे] उल्लसित, उल्लास-धुक्कुइ धुगिअ } युक्त (दे ५, ६०) ।

धुक्कुधुअ देखो धुक्काधुक्क । वक्क धुक्कु-धुअत (भवि) ।

धुक्कोडिअ न [दे] संशय, सदेह (वजा ६०) ।

धुगुधुग अक [धुगधुगाय्] 'धुग् धुग्' आवाज करना । वक्क धुगुधुगत (पएह १, ३—पत्र ४५) ।

धुट्टुअ देखो धुट्टुअ । धुट्टुअइ (हे ४, ३६५) ।

धुण मक [धू] ? कँपाना, हिलाना । २ दूर करना, हटाना । ३ नाश करना । धुणाइ, धुणाइ

(हे ४, ५६, आचा; पि १२०) । कर्म धुवइ, धुणिअइ (हे ४, २४२) । वक्क धुणत (सुपा १८५) । सक धुणिकण, धुणिया, धुणिकण (पड, वस ६ ३) । हेक्क धुणित्तए (सूत्र १, २, २) । क धुणोज्ज (आचू १) ।

धुणण न [धूनन] ? अनयन । २ परिष्णण, छोडना (राज) ।

धुणणा छी [धूनना] कम्पन, हिलना (भोष १६५ भा) ।

धुणा देखो धुणागा (उत्त २८, २७) ।

धुणाव सक [धूनय्] कँपाना, हिलाना । धुणावइ (वजा ६) ।

धुणाविअ वि [धूनित्त] कँपाना हुआ (उप ७६८ टी) ।

धुणि देखो भुणि (पड) ।

धुणिकण } देखो धुण ।
धुणित्तए }

धुणिय वि [धूत] कम्पित, हिलाना हुआ 'मत्थय धुणिय' (सुपा ३२०, २०१) ।

धुणिया } देखो धुण ।
धुणोज्ज }

धुणण वि [धान्य] ? दूर करते योग्य । २ न पाप । ३ कर्म (वस ६, १, वसा ६) ।

धुत्त वि [धूत्त] ? ठग, वक्क, प्रतारक (प्रासू ४०, आ १२) । २ जुआ खेलनेवाला । ३ पु धूतरे का पेड । ४ लोहे की काट—मैल । ५ लवण-विशेष, एक प्रकार का नोन (हे २, ३०) ।

धुत्त वि [दे] ? विस्तीर्ण (दे ५, ५८) । २ आक्रान्त (पड) ।

धुत्त } सक [धूत्तय्] ठगना । धुत्तारिअ
धुत्तार } (सुपा ११४) । वक्क धुत्तयत (आ १२) ।

धुत्तारिअ वि [धूत्तित्त] ठगा हुआ, वक्कित (उप ७२८ टी) ।

धुत्ति छी [धूत्त] जरा, बूढापा (राज) ।

धुत्तिअ वि [धूत्तित्त] वक्कित, प्रतारित (सुपा ३२४, आ १२) ।

धुत्तिम पुत्ती [धूत्तत्व] धूत्तता, धूत्तपन, ठगई (हे १, ३५, कुमा, आ १२) ।

धुत्ती छी [धूत्ता] धूत्तं वी (वजा १०६) ।

दूआ देखो धूआ (पड्) ।

दूइ° देखो दूई° । °पलासय न [°पलाशक] एक चैत्य (जवा) ।

दूइञ्ज सक [दू] गमन करना, विहरना, जाना । दूइञ्जइ (आचा) । वक्र दूइञ्जत, दूइञ्जमाण (औप, याया १, १, भग, आचा, महा) । हेह दूइञ्जित्तए (कस) ।

दूइत्त न [दूतीत्व] दूती का कार्य, दूतीपन (पउम ५३, ४५) ।

दूई ली [दूती] ? दूत के काम मे नियुक्त की हुई ली, समाचार-हारिणी, कुटनी (हे ४ ३६७) । २ जेन साधुओ के लिये भिन्ना का एक दोष (ठा ३, ४—पत्र १६६) । °पिंड पु [°पण्ड] समाचार पहुँचाने से मिली हुई भिन्ना (आचा २ १, ६) । देखो दूई° ।

दूण वि [दून] हैरान किया हुआ 'हा पिय-वयस दूवो (? यो) मए तुम' (स ७६३) ।

दूण पुं [दे] हन्ती, हाथी (दे ५, ४४, पड्) । दूण (अप) देखो दुच्छण (पिंग) ।

दूणवेड वि [दे] ? अशक्य । २ तडाग, तलाव, तालाव (दे ५, ५६) ।

दूभ अक [दु खय्] दूभना; दु खित होना, 'तम्हा पुत्तोवि दूभिज्जा पहमिज्ज व दुज्जणो' (आ १२) ।

दूभग देखो दुवभग (याया १, १६—पत्र १६६) ।

दूभग्ग न [दौर्भाग्य] दुष्ट भाग्य, खराब नसीब (उप पृ ३१) ।

दूम नक [दू, द्रावय्] परिताप करना, सताप करना । दूमइ, दूमेइ (सुपा ८, प्राप्र, हे ४, २३) । कर्म दूमिज्जइ (भवि) । वक्र दूमेन (से १०, ६३) । कवक दूमि-ज्जत (सुपा २६६) ।

दूम देखो दूम = धवलम् (हे ४, २४) ।

दूमक } वि [दावक] उपताप-जनक, पीडा-
दूमग } जनन (पएह १, ३, राज) ।

दूमग नि [दावक] उपताप करनेवाला (सूअ १, २, २, २७) ।

दूमण न [द्वयन, दावन] परिताप, पीडन (पएह १, १) ।

दूमण न [वयलन] सपेद करना (वव ४) ।

दूमण देखो दुम्मण = दुर्मनस् (सूअ १, २, २) ।

दूमणाइअ वि [दुर्मनायित] जो उदास हुआ हो, उद्विग्न-मनस्क (नाट—मालती ६६) ।

दूमिअ [दून, दावित] सतापित, पीडित (सुपा १०, १३३, २३०) ।

दूमिअ वि [धवलिन] सपेद किया हुआ (हे ४, २४, कप्प) ।

दूयाकार न [दे] कला-विशेष (स ६०३) ।

दूर न [दूर] ? अनिकट, असमीप, 'रुसेव जस्स किन्तो गया दूर' (कुमा) । २ अतिशय, अत्यन्त, 'दूरमहर उसते' (कुमा) । ३ वि. दूरस्थित, असमीपवर्ती (सूअ १, २, २) । ४ व्यवहित, अन्तरित (गउड) । °ग वि [°ग] दूरवर्ती, असमीपस्थ (उप ६४८ टी, कुमा) । °गइ, °गइअ वि [°गतिक] ?

दूर जानेवाला । सौधर्म आदि देवलोक मे उत्पन्न होनेवाला (ठा ८) । °तराग वि [°तर] अत्यन्त दूर (पएण १७) । °त्य वि [°त्य] दूरस्थित, दूरवर्ती (कुमा) । °भविय पुं [°भव्य] दीर्घ काल मे मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यतावाला जीव (उप ७२८ टी) । °य देखो °ग (सूअ १, ५, २) ।

°वत्ति वि [°वत्तिन्] दूर मे रहनेवाला (पि ६४) । °लइय वि [°लयिक] मुक्ति-गामी (आचा) । °लय पु [°लय] ? दूर-स्थित आश्रय । २ मोक्ष । ३ मुक्ति का मार्ग (आचा) ।

दूरगइअ देखो दूर-गइअ (औप) । दूरतरिअ वि [दूरान्तरित] अत्यन्त व्यवहित (गा ६५८) ।

दूरचर वि [दूरचर] दूर रहनेवाला (धम्मो १०) ।

दूराय सक [दूराय्] दूरस्थित की तरह मालूम होना, दूरवर्ती मालूम पडना । वक्र दूरायमाण (गउड) ।

दूरीकय वि [दूरीकृत] दूर किया हुआ (आ २८) ।

दूरीहूअ वि [दूरीभुत] जो दूर हुआ हो (सुपा १५८) ।

दूरुल वि [दूरवत्] दूरस्थित, दूरवर्ती (आव ४) ।

दूलह देखो दुल्लह (सखि १७) ।

दूस अक [दुष्] दूषित होना, विकृत होना । दूसइ (हे ४, २३५, सखि ३६) ।

दूस सक [दूषय्] दोषित करना, दूषण—दोष लगाना । दूसइ (भवि); दूसेइ (वृह ४) ।

दूस न [दूष्य] ? वज्र, कपडा (सम १५१, कप्प) । २ तंबू, पट-कुटी (दे ५, २८) । °गणि पु [°गणिन्] एक जैन आचार्य (एदि) । °मित्त पुं [°मित्र] मौर्यवंश के नाश होने पर पाटलिपुत्र मे श्रमिपिक एक राजा (राज) । °हर न [°गृह] तंबू, पट-कुटी (स २६७) ।

दूसअ वि [दूषक] दोष प्रकट करनेवाला (वज्जा ६८) ।

दूसग वि [दूषक] दूषित करनेवाला (सुपा २७५, सं १२४) ।

दूसग वि [दूषक] दूषण निकालनेवाला, दोष देखनेवाला (धर्मवि ८५) ।

दूसग न [दूषण] दूषित करना (अज्क ७३) ।

दूसण न [दूषण] ? दोष, अपराध । २ कलक, दाग (तट्ट) । ३ पुं रावण की मौसी का लडका (पउम १६, २५) । ४ वि. दूषित करनेवाला (स ५२८) ।

दूसम वि [दुष्पम] ? खराब, दुष्ट । २ पु. काल-विशेष, पाँचवाँ आरा, 'दूसमे काले' (सट्ठि १५६) । °दूसमा देखो दुस्सम-दुस्समा (सम ३६, ठा १, ६) । °सुसमा देखो दुस्समसुसमा (ठा २, ३, सम ६४) ।

दूसमा देखो दुस्समा (सम ३६, उप ८३३ टी, सं ३४) ।

दूसर देखो दुस्सर (राज) ।

दूसल वि [दे] दुर्मग, अमाणा (दे ५, ४३, पड्) ।

दूसह देखो दुस्सह (हे १, १३, ११५) ।

दूसहगीअ वि [दुस्सहनीय] दुस्सह, असह्य (पि ५७१) ।

दूसासण देखो दुस्सासण (हे १, ४३) ।

दूसाहअ वि [दौस्साधिक] दुसाध जाति मे उत्पन्न, अस्पृश्य जाति का (प्राक्क १०) ।

दूसि पु [दूपिन्] नपुंसक का एक भेद, 'दोसुवि वेपु सज्जए दूसी' (वृह ४) ।

धूमाश्रति (से ८, १६, गउड) । वकू धूमायत (गउड, से १, ८) ।

धूमाभा स्त्री [धूमाभा] पाँचवी नरक-पृथिवी (पउम ७५, ४७) ।

धूमिअ वि [धूमित] १ धूमयुक्त (पिंड) । २ छौंका हुआ (शाक आदि) (दे ६, ८८) ।

धूमिआ स्त्री [दे] नीहार, कुहासा (दे ५, ६१, पाष, ठा १०, भग ३, ७, अणु) ।

धूरया देखो धूआ (सूअ १, ४, १, १३) ।

धूरिअ वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे ५, ६२) ।

धूरिअवट्ट पुं [दे] अश्व, घोडा (दे ५, ६१) ।

धूलिआ (अप) देखो धूलि (दे ४, ४३२) ।

धूलि स्त्री [धूलि, ली] धूल, रज, रेणु धूली (गउड, प्रासू २८, ८४) । कब, कंलव पुं [कदम्ब] शीष्म ऋतु मे विक-

सनेवाला कदम्ब-वृक्ष (कुमा) । जघ वि [जङ्घ] जिसके पाँव मे धूल लगी हो वह (वव १०) । धूसर वि [धूसर] धूल से लिप्त (गा ७७४, ८२६) । धोड वि [धोट] धूल को साफ करनेवाला (सुपा ३३६) । पथ पुं [पथ] धूलि-बहुल मार्ग (शोध २४ टी) । वरिस पुं [वर्ष] धूल की वर्षा (आवम) । हर न [गृह] वर्षा ऋतु मे लडके लोग जो धूल का घर बनाते हैं वह (उप ५६७ टी) ।

धूलिहडी स्त्री [दे] पर्व-विशेष, होली, धूलि-हडीरायतणसरिसा सव्वेस हसरिणज्जा (कुलक ५) ।

धूलीवट्ट पुं [दे] अश्व, घोडा (दे ५, ६१) ।

धूव सक [धूपय] धूप करना । धूवेज (आचा २, १३) । वकू. धूवेत (पि ३६७) ।

धूव पुं [धूप] १ सुगन्धि द्रव्य से उत्पन्न धूम । २ सुगन्धि द्रव्य-विशेष, जो देव-पूजा आदि में जलाया जाता है (शाया १, १, सुर ३, ६५) । घडी स्त्री [घटी] धूप-पात्र, धूप से भरी हुई कलशी (जं १) । जत न [यन्त्र] धूप-पात्र (दे ३, ३५) ।

धूवण न [धूपन] १ धूप देना । २ धूम-पान, रोग की निवृत्ति के लिए किया जाता धूम का पान, 'धूवणेति वमणे य व त्थीकम्मविरेयणे' (वस ३, ६) । वट्टि स्त्री [वत्ति] धूप की बनी हुई वत्तिका, अगारवत्ती (कप्पू) ।

धूविअ वि [धूपित] १ तापित, गरम किया हुआ । २ हींग आदि से छौंका हुआ (चार ६) । ३ धूप दिया हुआ (श्रौप, गच्छ १) ।

धूसर पुं [धूसर] १ हलका पीला रंग, ईषत पाएडु वणं । २ वि धूसर रगवाला, ईषत पाएडु वणंवाला (प्रासू ८४, गा ७७४, से ६, ८२) ।

धूसरिअ वि [धूसरित] धूसर वणंवाला (पाश, भवि) ।

धे सक [धा] धारण करना । धेइ (सक्ति ३३), 'धेहि धीरत्त' (कुप्र १००) ।

धेअ ? वि [धेय] ध्यान योग्य (अजि धेज्ज) १४, शाया १, १) ।

धेउल्लिया देखो धीउल्लिया (सुख ३, १) ।

धेज्ज वि [धेय] धारण करने योग्य (शाया १, १) ।

धेज्ज न [धैर्य] धीरज, धीरता (पएह २, २) ।

धेणु स्त्री [धेनु] १ नव-प्रसूता गौ । २ सवत्ता गौ । ३ दूधार गाय (हे ३, २६, चड) ।

धेर देखो धीर = धैर्य (चिक्र १७) ।

धेवय पुं [धैवत] स्वर-विशेष, वेवयस्वरस-पणणा भवति कलहम्पिया' (ठा ७—पत्र ३६३) ।

धोअ सक [धाव] धोना, शुद्ध करना, पकारना । धोएजा (आचा) । वकू धोयत (सुपा ८५) ।

धोअ वि [धौत] धोया हुआ, प्रक्षालित (से १, २५, ७, २०, गा ३६६) ।

धोअग वि [धावक] १ धोनेवाला । २ पु. धोवी (उप पृ ३३३) ।

धोअण वि [धावण] धोना, प्रक्षालन (शा २०, रयण १८, शोध ३४७) ।

धोइअ देखो धोअ = धौत (गा १८) ।

धोज्ज वि [धुर्य] १ धुरीण, भार-वाहक । २ अयुआ, नेता, धुरन्धर (वव १) ।

धोरण न [दे] गति-चातुर्य (श्रौप) ।

धोरण स्त्री [धोरणि, णी] पक्ति, कतार धोरणी (सुपा ४६, भवि, वड्) ।

धोरिय देखो धोज्ज (सुपा २८२) ।

धोरुगिणी स्त्री [धोरुगिणिका] देश-विशेष में उत्पन्न स्त्री (शाया १, १—पत्र ३७) ।

धोरेय वि [धौरेय] देखो धोज्ज (सुपा ६५०) ।

धोव देखो धोअ = धाव । धोवइ (स १५७, पि ७८) । धोवेजा (आचा) । वकू धोवत (भवि) । कवकू धोव्वत, धोव्वसाण (पउम १०, ४४, शाया १, ८) । कू धोवणिय (शाया १, १६) ।

धोवण देखो धोअण (पिंड २३) ।

धोवय देखो धोवण (दे ८, ३६) ।

ध्रुवु (अप) अ [ध्रुवम्] अठल, स्थिर (हे ४, ४१८) ।

॥ इअ सिरिपाइअसहमहणवमि धआराइसहसकलणो
छन्वीसइमो तरगो समत्तो ॥

(परण १७—पत्र ५३०) । °दिण्ण, °दिञ्ज पु [°दत्त] व्यक्ति-वाचक नाम, एक सार्थवाह-पुत्र (राज, राया १, २—पत्र ८३) । °दीव पु [°द्वीप] द्वीप-विशेष (जीव ३) । °दूस न [°दूष्य] देवता का वस्त्र, दिव्य वस्त्र (जीव ३) । °देव पुं [°देव] १ परमेश्वर, परमात्मा, (सुपा ५००) । २ इन्द्र, देवो का स्वामी (आचा ५) । °नट्टिया स्त्री [°नर्तिका] नाचनेवाली देवी, देव-नटी (अजि ३१) । °नयरी स्त्री [°नगरी] अमरावती, स्वर्ग-पुरी (पत्र ३२, ३५) । °पडिक्खोभ पु [°प्रति-श्रोभ] तमस्काय, अन्वकार (भग ६, ५) । °पल्लिक्खोभ पु [°परिक्षोभ] कृष्ण-राजि (भग ६, ५) । °पव्वय पु [°पर्वत] पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । °पपसाय पु [°प्रसाद] राजा कुमारपाल के पितामह का नाम (कुप्र ५) । °फलिह पु [°परिघ] तमस्काय, अन्वकार (भग ६, ५) । °भद्द पु [°भद्र] १ देव-द्वीप का अघिष्ठाता देव (जीव ३) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (सार्ध ८३) । °भूमि स्त्री [°भूमि] १ स्वर्ग, देवलोक । २ मरण, मृत्यु, °अह अन्त्या य सिट्ठी धिरदेवो देवभूमिमणुपत्तो (सुपा ५२२) । °महाभद्द पु [°महाभद्र] देव-द्वीप का अघिष्ठाता देव (जीव ३) । °महावर पु [°महावर] देव नामक समुद्र का अघिष्ठातक देव-विशेष (जीव ३, इक) । °रइ पु [°रति] एक राजा (भत्त १२२) । °रक्ख पु [°रक्ष] राजस-त्रयीय एक राज-कुमार (पाउम ५, १६६) । °रण्ण न [°रण्य] तम काय, अन्वकार (ठा ४, २) । °रमण न [°रमण] १ सोमाजनी नगरी का एक उद्यान (विपा १, ४) । २ रात्रय का एक उद्यान (पउम ४६, १५) । °राय पु [°राज] इन्द्र (पउम २, ३८, ४६, ३६) । °रिसि पु [°रूपि] नारद मुनि (पउम ११, ६८, ७८, १०) । °लोअ, °लोग पु [°लोक] १ स्वर्ग (भग, राया १, ४ सुपा ६१५, आ १६) । २ देव-जाति, °अद्विहा ए भत्ते देवलोगा परणत्ता ? गोयमा चत्तविहा देवलोगा परणत्ता त जहा—भवणवासी, वाणमतरा, जोडसिया, वेमाणिया (भग ५, ६) ।

°लोगगमण न [°लोकगमन] स्वर्ग मे उत्पत्ति, °पाओवगमणाई देवजोगगमणाइ कुसु-लपचायाया पुणो वोहिलाभा (सम १४२) । °वर पु [°वर] देव-नामक समुद्र का अघिष्ठा-यक एक देव (जीव ३) । °वहू स्त्री [°वधू] देवागना, देवी (अजि ३०) । °सणत्ती स्त्री [°सज्जति] १ देव-कृत प्रतिबोध । २ देवता के प्रतिबोध से ली हुई दीक्षा (ठा १०—पत्र ४७३) । °सणिवाय पुं [°सज्जिपात] १ देव-समागम (ठा ३, १) । २ देव-समूह । ३ देवो को भीड़ (राय) । °सम्म पु [°शर्मन्] १ इस नाम का एक ब्राह्मण (महा) । २ ऐरवत क्षेत्र मे उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । °साल न [°शाल] एक नगर का नाम (उप ७६८ टी) । °सुद्री स्त्री [°सुन्दरी] देवागना, देवी (अजि २८) । °सुय देखो °स्सुय (पत्र ७) । °सेण पु [°सेन] १ शतद्वार नगर का एक राजा, जिसका दूसरा नाम महापद्म था (ठा ६—पत्र ४५६) । २ ऐरवत क्षेत्र के एक जिनदेव (पव ७) । ३ भरत-क्षेत्र के एक भावी जिनदेव के पूर्वभव का नाम (ती १६) । ४ भगवान् नेमिनाथ का एक शिष्य, एक अन्तकृद् मुनि (अत्त) । °स्स न [°स्व] देव-द्रव्य, जिन-मन्दिर-सबन्धी धन (पचा ५) । °स्सुय पुं [°श्रुत] भरत-क्षेत्र के छठवें भावी जिन-देव (सम १५३) । °हर न [°गृह] देव-मन्दिर (उप ४११) । °इदेव पु [°तिदेव] अहंन् देव, जिन भगवान् (भग १२, ६) । °णद्द पु [°निन्द] ऐरवत क्षेत्र मे आगामी उत्सर्पिणी काल मे उत्पन्न होनेवाले चौबीसवें जिनदेव (सम १५४) । °णदा स्त्री [°निन्दा] १ भगवान् महावीर की प्रथम माता (आचा २, १५, १) । २ पक्ष की पनरहवी रात्रि का नाम (कप्प) । °णुणिय पु [°नुणिय] भद्र, महाशय, महानुभाव, सरल-प्रकृति (श्रौप, विपा १, १, महा) । °णिरिअ पु [°णार्य] एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य (पु ७) । °रत्त देखो °रण्ण (भग ६, ५) । २ देवो का क्रीडा-स्थान (जो ६) । °ल्य पुन [°ल्य] स्वर्ग (उप २६४ टी) । °हिदेव पु [°धिदेव] परमेश्वर, परमात्मा, जिनदेव (सम ४३, स

५) । °हिदेव पु [°धिपति] इन्द्र, देव-नायक (सुप्र १, ६) । देव पुन [देव] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३) । °कुरु स्त्री [°कुरु] भगवान् मुनि-सुव्रत स्वामी की दीक्षा-शिविका का नाम (विचार १२६) । °च्छदय पुंन [°च्छन्दक] कमानदार घूमटवाला दिव्य आसन-स्थान (आचा २, १५, ५) । °तमिस्स पुंन [°तमिस्स] अन्वकार-राशि, तमस्काय (भग ६, ५—पत्र २६८) । दिन्ना स्त्री [दत्ता] भगवान् वासुपुत्र्य की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । °पल्लिक्खोभ पु [°परिक्षोभ] कृष्णराजि, कृष्णवर्ण पुहलो की रेखा (भग ६, ५—पत्र २७०) । °रमण पु [°रमण] नन्दीश्वर द्वीप के मध्य मे पूर्व-दिशा स्थित एक अजनगिरि (पव २६६ टी) । °वूह पुं [°व्यूह] तमस्काय (भग ६, ५—पत्र २६८) । देव देखो दइव (उप ३५६ टी, महा, हे १, १५३ टी) । °न्नु वि [°ज्ञ] जौतिष-शास्त्र का जानकार (सुपा २०१) । °पर वि [°पर] भाग्य पर ही श्रद्धा रखनेवाला (षड्) । देवइ स्त्री [देवकी] श्रीकृष्ण की माता, आगामी उत्सर्पिणी काल में होनेवाले एक तीर्थंकर देव का पूर्व भव (पउम २०, १८५, सम १५२, १५४) । देखो देवकी । देवउप्फ न [दे] पक्व पुष्प, पका हुआ फल (दे ५, ४६) । देव देखो दा = दा । देवग न [दे दिव्याङ्ग] देवदूष्य वस्त्र (उप ७३८) । देवगण न [देवाङ्गण] स्वर्ग, °दिक्खं गहिउ च देवगणे रमइ (सम्मत्त १६०) । देवधकार देखो देवधगार (भग ६, ५—पत्र २६८) । देवधगार पुं [देवान्वकार] तिमिर-निचय, अन्वकार का समूह (ठा ४, २) । देवकिम्बिस पु [देवकिम्बिष] एक अघम देव जाति (ठा ४, ४—पत्र २७४) । देवकिम्बिसिया स्त्री [देवकिम्बिपिक्की] भावना-विशेष, जो अघम देव-योनि मे उत्पत्ति का कारण है (ठा ४, ४) ।

पइट्टा बी [प्रतिष्ठा] १ आदर, सम्मान । २ कीर्ति, यश । ३ व्यवस्था (हे १, २०६) । ४ स्थापना, संस्थापन (एदि) । ५ अवस्थान, स्थिति (पचा ८) । ६ मूर्ति में ईश्वर के गुणों का आरोपण: 'जिखविवाण पइट्ट कइया वि हु आइसतस' (सुर १६, १३) । ७ आश्रय, आघार (औप) ।

पइट्टा बी [प्रतिष्ठा] १ धारणा, वासना (एदि १७६) । २ समाधान, शंका निरास-पूर्वक स्वपक्ष-स्थापन (चिद्वय ५३५) ।

पइट्टाण पु [प्रतिष्ठान] मूल प्रदेश (राय २७) ।

पइट्टाण न [प्रतिष्ठान] १ स्थिति, अवस्थान: 'काऊण पइट्टाण रमणिणजे एत्य अच्छामो' (पचम ४२, २७, ठा ६) । २ आघार, आश्रय (भग) । ३ महल आदि की नीव (पव १४८) । ४ नगर-विशेष (आक २१) ।

पइट्टाण न [दे] नगर, शहर (दे ६, २६) । पइट्टावक } देखो पइट्टावय (णामा १, १६ पइट्टावग } राज) ।

पइट्टावण न [प्रतिष्ठापन] १ संस्थापन (पंचा ७) । २ व्यवस्थापन (पचा ७) ।

पइट्टावय वि [प्रतिष्ठापक] प्रतिष्ठा करने-वाला (औप, पि २२०) ।

पइट्टाविथ वि [प्रतिष्ठापित] संस्थापित (स ६२, ७०५) ।

पइट्टिअ वि [प्रतिष्ठित] प्रतिबद्ध, रुका हुआ (आचा २, १६, १२) ।

पइट्टिय वि [प्रतिष्ठित] १ स्थित, अवस्थित (उवा) । २ आश्रित, 'रयणायरतीरपइट्टियाण पुरिसाण ज च दालिह' (प्रासू ७०) । ३ व्यवस्थित (आचा २, १, ७) । ४ गौरवान्वित (हे १, ३८) ।

पइणियय वि [प्रतिनियत] नियम-संगत, नियमित (धर्मवि २६६) ।

पइण वि [दे] विपुल, विस्तृत (दे ६, ७) । पइण वि [प्रतीर्ण] प्रकर्ष से तीर्ण (आचा) ।

पइण } वि [प्रतीर्ण, क] १ विसिप्त पइणग } फेंका हुआ, 'रत्यापइणणमणु-पला तुम सा पडिच्छए एत' (गा १४०) । २ अनेक प्रकार से मिश्रित (पचू) । ३ विखरा हुआ (ठा ६) । ४ विस्तारित (इह १) । ५ न ग्रय-विशेष, तीर्थकर-देव के

सामान्य शिष्य द्वारा वनाया हुआ ग्रथ (एदि) । 'कहा बी [कथा] उत्सर्ग, सामान्य नियम, 'उसगो पइणएकहा भएणइ अववादो नियच्छकहा भएणइ' (निचू ५) । 'तव पु [तपस्] तपश्चर्या-विशेष (पचा १६) । पइणग बी [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपथ (नाट-मालती १०६) । २ नियम (औप, पचा १८) । ३ तकशास्त्र प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, साध्य वचन का निर्देश (दसनि १) ।

पइणगाद (शौ) वि [प्रतिज्ञात] जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो वह (मा १५) ।

पइणिण वि [प्रतिज्ञावन्] प्रतिज्ञावाला, 'वधमोक्त्वपइणिएणो' (उत्त ६, १०, सुव, १०) ।

पइत्त देखो पउत्त = प्रवृत्त (भवि) । पइत्त वि [प्रदीप्त] जला हुआ, प्रज्वलित (से १५, ७३) ।

पइत्त देखो पवित्त = पवित्र (सुपा ७४) ।

पइदि (शौ) देखो पगइ (नाट—शकु ६१) ।

पइदिण न [प्रतिदिन] हर रोज (काल) । पइदिय वि [प्रदिग्ध] विलिप्त (सूअ १, ५, १) ।

पइदियह न [प्रतिदिवस] प्रतिदिन, हर रोज (सुर १, ५०) ।

पइनियय वि [प्रतिनियत] मुकर्रर किया हुआ, नियुक्त किया हुआ (आवम) ।

पइन्न देखो पइणग = प्रतीर्ण (परह २, १ टी—पत्र १०५) ।

पइन्न } देखो पइणग (उव, भवि, आ ६) । पइन्नग }

पइन्नय देखो पइन्नग (चिद्वय १६) ।

पइन्ना देखो पइणगा (सुर १, १) ।

पइप्प देखो पलिप्प । वहु पइप्पमाण (गा ४१६) ।

पइप्पईय न [प्रतिप्रतीक] प्रत्यग, हर अग (रभा) ।

पइभय वि [प्रतिभय] प्रत्येक प्राणी को भय उपजानेवाला (णामा १, २, परह १, १, औप) ।

पइभा बी [प्रतिभा] बुद्धि विशेष, प्रत्युत्पन्न-मति (पुष्क ३३१) ।

पइभाणाण न [प्रतिभाज्ञान] प्रतिभा से उत्पन्न होता ज्ञान, प्रातिभ प्रत्यक्ष (धर्मस १२०६) ।

पइमुह वि [प्रतिमुख] समुल (उप ७४४) ।

पइर सक [वप्] बोना, वपन करना । पइरिति (आचा २, १०, २) । भूका पइरिणु (आचा २, १०, २) । भवि, पइरिसंति (आचा २, १०, २) । कर्म, पइरिज्जति (स ७१३) ।

पइरिक्क वि [दे प्रतिरिक्त] १ शून्य, रहित (दे ६, ७१, से २, १५) । २ विशाल, विस्तीर्ण (दे ६, ७१) । ३ तुच्छ, हलका (से १, ५८) । ४ प्रचुर, विपुल (श्रोध २४६—पत्र १०३) । ५ नितान्त, अत्यन्त 'पइरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमिए' (कम्प) । ६ न एकान्त स्थान, विजन स्थान, निर्जन जगह (दे ६, ७१, स २३५, ७५५, गा ८८, उप २६३) ।

पइल (अप) देखो पढम (पि ४४६) ।

पइलाइया बी [प्रतिखादिका] हाथ के वल चलनेवाली सर्प की एक जाति (राज) ।

पइल्ल पु [दे पदिक] १ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) । २ रोग-विशेष, श्लेपद (परह २, ५) ।

पइव पु [प्रतिव] एक यादव का नाम (राज) ।

पइवरिस न [प्रतिवर्ष] हरएक वर्ष (पि २२०) ।

पइवाइ वि [प्रतिवादिन्] प्रतिवादी, प्रतिपत्ती (विसे २४८८) ।

पइविसिट्ट वि [प्रतिविशिष्ट] विशेष युक्त, विशिष्ट (उवा) ।

पइविसेस पुं [प्रतिविशेष] विशेष, भेद-भिन्नता (विसे ५२) ।

पइस देखो पविस । पइमइ (भवि) । पइसति (दे १, ६४ टि) । कर्म पइसिज्जइ (भवि) । वहु पइसत (भवि) । ठू. पइमिअन्न (स २३४) ।

पइसमय न [प्रतिसमय] हर समय, प्रतिजण (पि २२०) ।

पइसर देखो पविस । पइसरइ (भवि) ।

मे गया हुआ (सुर १०, १६२) । °सहा ली
[°सभा] वरंशाला (उप ४ ११५) ।
देसिअ देखो देवसिअ, 'पङ्क्तिमे देसिअं सव्व'
(पडि, आ ६) ।
देसिअव वि [देशितवत्] जिसने उपदेश
दिया हो वह (सूत्र १, ६, २४) ।
देसिअग देखो देसिअ = देश्य (बृह ३) ।
देसी ली [देशी] भाषाविशेष, अत्यन्त प्राचीन
प्राकृत भाषा का एक भेद (दे १, ४) ।
°भासा ली [°भाषा] वही अर्थ (एयाया १,
१, औप) ।
देसुण वि [देशोन] कुछ क्रम, अश की कमी-
वाला (सम २, १०३, दं २८) ।
देस्स वि [टश्य] १ देखने योग्य । २ देखने
को शक्य (स १६६) ।
देह देखो टेकर। देहई, देहए (उत्त १६, ६,
पि ६६) । वरु देहमाण (भग ६, ३३) ।
देह पुन [देह] १ शरीर, काय (जी २८, कुप्र
१५३ प्रासू ६५) । २ पु पिशाच-विशेष
(इक, पएण १) । °रय न [°रत] मैथुन
(वजा १०८) ।
देहवलिआ ली [देहवलिआ] भिक्षा-वृत्ति,
भोख की आजीविका (एयाया १, १६—पत्र
१६६) ।
देहणी ली [दे] पक, कदम, कादा, कादो
(दे ५, ४८) ।
देहरय (अप) न [देवगृहक] देव-मन्दिर
(वजा १०८) ।
देहली ली [देहली] चौखट, द्वार के नीचे की
लकड़ी (गा ५२५, दे १, ६५, कुप्र १८३) ।
देहि पु [देहिन्] आत्मा, जीव (स १६५) ।
देहुर (अप) न [देवकुल] देव-स्थान, मन्दिर
(अवि) ।
दो अ [द्विधा] दो प्रकार से, दो तरह (सुपा
२३३, ३१२) ।
दो वि व [द्वि] दो, उभय, युग्म (हे १,
६४) ।
दो पु [दोस्] हाथ, बाहु (विक्र ११३,
रंमा, कप्प) ।
दोअड ली [द्विअड] छन्द-विशेष (पिमा) ।
दोजाल पुं [दो] युग्म, वैन (दे ५, ४६) ।
६१

दोइ देखो दो = द्विधा (बृह ३) ।
दोबुर [दे] देखो दोबुर (षड्) ।
दोकारिय वि [द्विक्रिय] एक ही समय में दो
क्रियाओं के अनुभव को माननेवाला (ठा ७) ।
दोकर देखो दुकर (अवि) ।
दोक्खर पुं [द्वि-अक्षर] षण्ड, नपुसक
(बृह ४) ।
दोखड देखो दुखड (अवि) ।
दोखडअ वि [द्विखण्डत] जिसके दो टुकड़े
किए गए हो वह (अवि) ।
दोगळि वि [जुगुप्सिन्] धृणा करनेवाला
(पि ७४) ।
दोगच्च न [दौर्गत्य] १ दुर्गति, दुर्दशा (पचव
४) । २ दारिद्र्य, निर्धनता (सुपा २३०) ।
दोगुळि देखो दोगळि (पि २१५) ।
दोगुदय पुन [दोगुन्दक] एक देव-विमान
(देवेन्द्र १४५) ।
दोगुदुय पु [दौर्गुन्दक] उत्तम-जातीय देव-
विशेष (सुपा ३३) ।
दोग्ग न [दे] युग्म, युगल (दे ५, ४६, षड्) ।
दोग्गइ देखो दुग्गइ (सुर ८, १११) । °कर
वि [°कर] दुर्गति जनक (पउम ७३, १०) ।
दोग्गच्च देखो दोगच्च (गा ७६) ।
दोग्घट्ट } पु [दे] हाथी, हस्ती (पि ४३६,
दोग्घोट्ट } षड्, पात्र, महा, लहुअ ४, स
दोघट्ट } ४६१) ।
दोचूड पु [द्विचूड] विद्याधर वश के एक
राजा का नाम (पउम ५, ४५) ।
दोच्च वि [द्वितीय] दूसरा (सम २, ८, विपा
१, २) ।
दोच्च न [दौत्य] दूतपन, दूत-कर्म (एयाया १,
८, गा ८४) ।
दोच्च अ [द्विस्] दो बार, दो वक्त, एवं
च निसामित्ता दोच्च तच्च समुल्लवतस्स' (सुर
२, २६) ।
दोच्चग न [द्वितीयाङ्ग] १ दूसरा अंग । २
पकाया हुआ शाक (बृह १) । ३ तीमन,
कडी (औष २६७ भा) ।
दोजीह पु [द्विजिह्व] १ दुर्जन । २ साँप
(सुर १, २०) ।
दोउम्प वि [दोह्य] दोहने योग्य (आचा २,
४, २) ।

दोण पुं [द्वोण] १ घनुर्वेद के एक सुप्रसिद्ध
आचार्य, जो पाण्डव और कौरवों के गुरु थे
(एयाया १, १६, वेणी १०४) । २ एक
प्रकार का परिमाण (जो २) । °मुह न
[°मुख] नगर, जल और स्थल के मार्गवाला
शहर (पएह १, ३, कप्प, औप) । °मेह पुं
[°मेघ] मेघ-विशेष, जिसकी धारा से बड़ी
कलशी भर जाय वह वर्षा (विसे १४५८) ।
°सुया ली [°सुता] लक्ष्मण की ली का
नाम, विशल्या (पउम ६४, ४४) ।
दोणअ पु [दे] १ आयुक्त, गाँव का मुखिया ।
२ हालिक, हलवाह, हल जोतनेवाला, हरवाहा
(दे ५, ५१) ।
दोणक्का ली [दे] सरघा, मधुमक्खी (दे ५,
५१) ।
दोणी ली [द्वोणी] १ नौका, छोटा जहाज
(पएह १, १, दे २, ४७, वम्म १२ टी) ।
२ पागी का बडा कुँडा (अणु, कुप्र ४४१) ।
दोचडी ली [दुस्तडी] दुष्ट नदी, 'एकत्तो
सहूलो प्रवत्तो दोत्तडी विण्यडा' (उप ५३०
टी, सुपा ४६३) ।
दोत्थ न [दौत्थ्य] दुस्त्यता, दुर्दशा, दुर्गति
(वव ४, ७) ।
दोदाण वि [दुदान] दुख से देने योग्य
(सखि ४) ।
दोद्विअ पु [दे] चर्म-कूप, चमड़े का बना
हुआ भोजन-विशेष (दे ५, ४६) ।
दोदु वि [दोघु] दोहन-कर्ता (दस १, १ टी) ।
दोधअ } न [दोधक] छन्द-विशेष
दोधक } (पिमा) ।
दोधार पु [द्विधाकार] द्विधाकरण, दो भाग
करना (ठा ५, ३—पत्र ३४६) ।
दोनिक्कम वि [दुनिक्कम] अत्यन्त कष्ट से
चलने योग्य (भग ७, ६—पत्र ३०५) ।
दोबुर पु [दे] तुम्बुर, स्वर्ग-गायक (षड्) ।
दोव्वलिय देखो दुव्वलिय (आचा २, ३,
२, ३) ।
दोव्वल न [दौर्वल्य] दुर्बलता (पि २८७,
काप्र ८५) ।
दोभाय वि [द्विभाग] दो भागवाला, दो
खण्डवाला (उप १४७ टी) ।

(ठा २, ४, इक) । ४ गन्ध द्रव्य-विशेष (श्रौप, जीव ३) । ५ सुधर्मा समा का एक सिंहासन (शाया २) । ६ दिन का नववाँ गृहर्त (जो २) । ७ दक्षिण रुचक-पर्वत का एक शिखर (ठा ८) । ८ पु राजा रामचन्द्र, सीता-पति (पउम १, ५, २५, ८) । ९ आठवाँ बलदेव, श्रीकृष्ण के बड़े भाई । १० इस अवसर्पिणीकाल मे उत्पन्न नववाँ चक्रवर्ती राजा, राजा पद्मोत्तर का पुत्र (पउम ५, १५३, १५४) । ११ एक राजा का नाम (उप ६४८ टी) । १२ माल्यव नामक पर्वत का अधिष्ठाता देव (ठा २, ३) । १३ भरतक्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी मे उत्पन्न होनेवाला आठवाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । १४ भरत क्षेत्र का भावी आठवाँ बलदेव (सम १५४) । १५ चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर वस्त्रों की पूर्ति करता है (उप ६८६ टी) । १६ राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १) । १७ एक जैन मुनि का नाम (कम्प) । १८ एक ह्रद (कम्प) । १९ पद्म वृक्ष का अधिष्ठाता देव (ठा २, ३) । २० महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा, एक भावी राजर्षि (ठा ८) । २१ गुम्भ न [गुल्म] १ आठवें देव-लोक मे स्थित एक देव-विमान का नाम (सम ३५) । २ प्रथम देवलोक में स्थित एक देव-विमान का नाम (महा) । ३ पुं. राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १) । ४ एक भावी राजर्षि, महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८) । ५ चरिय न [चरित] १ राजा रामचन्द्र की जीवनी—चरित । २ प्राकृत भाषा का एक प्राचीन ग्रंथ, जैन रामायण (पउम ११८, १२१) । ६ नाभ पु [नाभ] १ वामुदेव, विष्णु (पउम ४०, १) २ आगामी उत्सर्पिणी-काल में भरतक्षेत्र मे होनेवाला प्रथम जिन-देव का नाम (पव ४६) । ३ कपिल-वामुदेव के एक माण्डलिक राजा का नाम (शाया १, १६—पत्र २१३) । ४ दल न [दल] कमल-पत्र (प्राह) । ५ दह पु [द्रह] विविध प्रकार के कमलों से परिपूर्ण एक महान् ह्रद का नाम (सम १०४, कम्प, पउम १०२,

३०) । ६ द्यय पु [ध्वज] एक भावी राजर्षि, जो महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा लेगा (ठा ८) । ७ नाह देखो १ नाभ (उप ६४८ टी) । ८ पुर न [पुर] एक दक्षिणात्य नगर, जो आजकल 'नासिक' नाम से प्रसिद्ध है (राज) । ९ प्यभ पु [प्रभ] इस अव-सर्पिणी काल में उत्पन्न षष्ठ जिन-देव का नाम (कम्प) । १० पभा स्त्री [प्रभा] एक पुष्करिणी का नाम (इक) । ११ पपह देखो १ प्यभ (ठा ५, १, सम ४३, पडि) । २ भह पु [भद्र] राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर २, १) । ३ मालि पु [मालिन्] विद्याधर-वश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४२) । ४ मुह देखो पउमाणण (पड) । ५ रह पु [रथ] १ विद्याधर-वश का एक राजा (पउम ५, ४३) । २ मथुरा नगरी के राजा जयदेव का पुत्र (महा) । ३ राय पु [राग] रक्त-वर्ण मण्डि-विशेष (१३६, १६६) । ४ राय पु [राज] घातकील्लण्ड की अपर-कका नगरी का एक राजा, जिसने द्रौपदी का अपहरण किया था (ठा १०) । ५ रक्खल पु [वृक्ष] १ उत्तर-कुशक्षेत्र मे स्थित एक वृक्ष (ठा २, ३) । २ वृक्ष सदृश बड़ा कमल (जीव ३) । ३ लया स्त्री [लता] १ कमलिनी, पद्मिनी (जीव ३, भग, कम्प) । २ कमल के आकारवाली वल्ली (शाया १, १) । ४ चडिसय, ५ वडिसय न [घतसम्] पद्मावती-देवी का सौधर्म नामक देवलोक में स्थित एक विमान (राज, शाया २—पत्र २५३) । ६ वरवेइया स्त्री [वरवेदिना] १ कमलो की श्रेष्ठ वेदिका (भग) ३ जम्बू द्वीप की जगती के ऊपर रही हुई देवी की एक भोग-भूमि (जीव ३) । ७ वूह पु [व्यूह] सैन्य की पचाकार रचना (पह १, ३) । ८ सर पु [सरस्] कमलो से युक्त सरोवर (शाया १, १, कम्प, महा) । ९ सिरी स्त्री [श्री] १ अष्टम चक्र-वर्ती सुभूमराज की पटरानी (सम १५२) । २ एक स्त्री का नाम (कुमा) । ३ सेण पु [सेन] १ राजा श्रेणिक के एक पौत्र का नाम, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (निर १, २) । २ नागकुमार-जातीय एक देव का नाम (वीव) । ३ सेहर पु

[शेखर] पृथ्वीपुर नगर के एक राजा का नाम (धम्म ७) । ४ गार पु [गार] १ कमलो का समूह । २ सरोवर (उप १३३ टी) । ३ सण न [सन] पचाकार आसन (ज १) ।

पउमग पुन [पद्म] केसर (उस ६, ६४) ।

पउमपपह पु [पद्मप्रभ] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य (विपा ३) ।

पउमा स्त्री [पद्मा] १ लक्ष्मी । २ देवी-विशेष । ३ लौंग, लवंग । ४ पुष्प-विशेष, कुसुम्भ-पुष्प (प्राह २८) ।

पउमा स्त्री [पद्मा] १ वीसवें तीर्थंकर श्री मुनिपुत्रतस्वामी की माता का नाम (सम १५१) । २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक पटरानी का नाम (ठा ८—पत्र ४२६, पउम १०२, १५६) । ३ भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ एक विद्याधर कन्या का नाम (पउम ६, २४) । ५ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । ६ लक्ष्मी (राज) । ७ वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३६) । ८ चौदहवें तीर्थंकर श्रीभानन्तनाथ की मुख्य शिष्या का नाम (पव ६) । ९ सुदर्शना-जम्बू की उत्तर दिशा मे स्थित एक पुष्करिणी (इक) । १० दूसरे बलदेव श्रीर वासुदेव की माता का नाम । ११ लेश्या-विशेष (राज) ।

पउमाड पु [दे] वृक्ष विशेष, पमाड का पेठ चक्रवद (दि ५, ५) ।

पउमाणण पु [पद्मानन] एक राजा का नाम (उप १०३१ टी) ।

पउमाभ पु [पद्माभ] षष्ठ तीर्थंकर का नाम (पउम १, २) ।

पउमार [दे] देखो पउमाड (दि ५ ५ टि) ।

पउमावई स्त्री [पद्मावती] १ जम्बूद्वीप के सुभेच पर्वत के पूर्व तरफ के रचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिम्कुमारी-देवी (ठा ८) । २ भगवान् पार्श्वनाथ की श्यामन-देवी, जो नाग-राज वरुणेन्द्र की पटरानी है (सति १०) । ३ श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम (भउ १५) । ४ भीम-नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी (सग १०, ५) । ५ शक्र-द्र की एक

दोहि वि [द्रोहिन्] द्रोह करनेवाला (भवि) ।
दोहिण्य वि [द्विभिन्न] द्विलण्ड, जिसका दो टुकड़ा किया गया हो वह (प्राक् ५१) ।
दोहित्त पुं [दौहित्र] लडकी का लडका, नाती (दे ६, १०६, सुपा ३६४) ।

दोहिती ली [दौहित्री] लडकी की लडकी, नातीनी (महा) ।
दोहूअ पु [दे] शव, मृतक, मुरवा (दे ५, ४६) ।
°दोस देखो दोस = (दे), 'वजियरागदोसो (कुप्र ३०) ।

द्रवक्क (अप) न [दे भय] भय, डर, भीति (हे ४, ४२२) ।
द्रह पुं [हृद] बड़ा जलाशय, सरोवर, भील (हे २, ८०, कुमा) ।
द्रेहि (अप) ली [दृष्टि] नजर (हे ४, ४२२) ।
द्रोह देखो दोह = द्रोह (पि २६८) ।

॥ इअ सिरिपाइअसइमहणवम्मि दआराइसइसकलणो
पचवोसइमो तरगो समत्तो ॥

ध

ध पुं [ध] वन्त स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप, प्रामा) ।
धअ देखो धव (गा २०) ।
धख पु [ध्वाङ्क्ष] काक, कौआ (उप ८२३, पचा ११) ।
धग पु [दे] भौंरा, अमर, भमरा (दे ५, ५७) ।
धंत न [ध्वान्त] अन्वकार, अंवेरा (सुर १, १२, कर ११) ।
धत न [ध्वान्त] अज्ञान (केव्हेर १) ।
धत न [दे] अति, अतिशय, अत्यन्त, 'धत-पि सुप्रसमिद्धा' (पच २६, विसे ३०१६, वृह १) ।
धत वि [ध्मात] १ अग्नि में तपाया हुआ (णाय १, १, श्रोप, पण १, १७, विसे ३०२६, अजि १४) । २ शब्द-युक्त, शब्दित (पिड) ।
धथा ली [दे] लज्जा, शरम (दे ५, ५७) ।
धधुक्य न [धन्धुक्य] गुजरात का एक नगर, जो आज कल 'धधुका' नाम से प्रसिद्ध है (सुपा ६५८, कुप्र २०) ।
धधोलिय (अप) वि [अमित] धुमाया हुआ (सण) ।
धस अक [धस] नष्ट होना । धसइ, धसए (पट्ट) ।

धस सक [ध्वसय्] १ नाश करना । २ दूर करना । धसइ (सूअ १, २, १) । धसइ (सम ५०) ।
धसाड सक [सुच्] त्याग करना, छोडना । धसाडइ (हे ४, ६१) ।
धसाडिअ वि [मुक्त] परित्यक्त, छोडा हुआ (कुमा) ।
धंसाडिअ वि [दे] व्यपगत, नष्ट (दे ५, ५६) ।
धगधग अक [धगधगाय्] १ 'धग्-धग्' आवाज करना । २ जलना, अतिशय जलना । वक्तु धगधगत (णाय १, १, पचम १२, ५१, भवि) ।
धगवगाइअ वि [धगधगायित्] 'धग्-धग्' आवाजवाला (कप्प) ।
धगधग देखो धगधग । वक्तु धगधगअ-माण (पि ५५८) ।
धग्गीकय वि [दे] जलाया हुआ, अत्यन्त प्रदीपित, 'अग्गी धग्गीकअो व्व पवणेण' (धा १४) ।
धज देखो धय = ध्वज (कुमा) ।
धट्ट देखो धिट्ट (हे १, १३०, पचम ४६, २६, कुमा १, ८२) ।

धट्टञ्जुण } पु [धृष्टुञ्जुण] राजा रुपद का
धट्टञ्जुण } एक पुत्र (हे २, ६४, णाय १, १६, कुमा, बड, पि २७८) ।
धड न [दे] घड, गले से नीचे का शरीर (सुपा २४१) ।
धडहडिय न [दे] गर्जना, गर्जारव (सुपा १७६) ।
धण न [धन्] १ वित्त, विभव, स्थावर-जगम सम्पत्ति (उत्त ६, सूअ २, १, प्रासू ५१, ७६, कुमा) । २ गरिणम, घरिण, मेय, या परिच्छेय द्रव्य—गिनती से और नाप आदि से क्रय-विक्रय योग्य पदार्थ (कप्प) । ३ पुं कुवेर, धन-पति, 'सुध णो सिद्धी धणोव्व धणकलिअो' (सुपा ३१०) । ४ स्वनाम-रूपात एक श्रेष्ठी (उप ५५२) । ५ धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (णाय १, १८) । 'इत्त, इल्ल वि [धन्] धनी, धनवाला (कुप्र २४५, पि ५६५, संसि ३०) । 'गिरि पु [गिरि] एक जैन महर्षि, जो वज्रस्वामी के पिता थे (कप्प, उप १४२ टी) । 'शुत्त पु [गुप्त] एक जैन मुनि (आवम) । 'गोव पुं [गोप] धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (णाय १, १८) । 'डह पुं [डह्य] एक जैनमुनि (कप्प) । 'पादि पुत्री [नन्दि] दुगुणा देव-द्रव्य, 'देव-

पओग पुं [प्रयोग] १ शब्द-योजना (भास ६३)। २ जीव का व्यापार, चेतन का प्रयत्न, 'उष्पाओ दुविगणो पओगजणियो य विस्ससो चैव' (सम २५, ठा ३, १, सम्म १२६, स ५२४)। ३ प्रेरणा (आ १४)। ४ उपाय (आचू १)। ५ जीव के प्रयत्न मे कारण-भूत मन आदि (ठा ३, ३)। ६ वाद-विवाद, शास्त्रार्थ (दसा ४)। ७ कम्म न [कर्मन्] मन आदि की चेष्टा से आत्म-प्रदेशो के साथ बँधनेवाला कर्म (राज)। ८ करण न [करण] जीव के व्यापार द्वारा होनेवाला किसी वस्तु का निर्माण, 'होइ उ एगो जीवव्वावारो तेण ज विणिम्मण पओगकरणे तथं बहुहे' (विसे)। ९ किरिया स्त्री [क्रिया] मन आदि की चेष्टा (ठा ३, ३)। १० फड्डय न [स्पर्शक] मन आदि के व्यापार-स्थान की वृद्धि द्वारा कर्म-परमाणुओ मे वढनेवाला रस (कम्मप २३)। ११ बघ पु [बन्ध] जीव-प्रयत्न द्वारा होनेवाला बन्धन (भग १८, ३)। १२ मइ स्त्री [भति] वाद-विषयक-परिज्ञान (दसा ४)। १३ सपया स्त्री [संपत्] आचार्य का वाद-विषयक सामर्थ्य (ठा ८)। १४ सा थ [प्रयोगेण] जीव-प्रयत्न से (पि ३६४)।

पओज देखो पउज = प्र + युज्। पओजए (पव ६४)।

पओजग वि [प्रयोजक] विनिश्चयक, निर्णायक, गमक (धर्मस १२२३)।

पओट्ट देखो पउट्ट = प्रकोष्ठ (प्राप्र, औप, पि ८४)।

पओत्त न [प्रतोत्र] प्रतोद, प्राजन यष्टि, पैना। १ धर पु [धर] वैलगाडी हाँकनेवाला, बहलवान या गाडीवान (णया १, १)।

पओद पुं [प्रतोद] ऊपर देखो (औप)।

पओप्पय पु [प्रपौत्रक] १ प्रपौत्र, पौत्र का पुत्र। २ प्रशिष्य का शिष्य, 'तेण कालेण तेण ममएण विमलस्स अरहओ पओप्पए धम्मघासे नाम अणगारे' (भग ११, ११—पत्र ५४८)।

पओप्पिय पु [दे प्रपौत्रिक] १ वंश-परम्परा। २ शिष्य-सतति, शिष्य-सतान (भग ११, ११—पत्र ५४८ टी)।

पओरासि पुं [पयोराशि] समुद्र (सम्मत् १७४)।

पओल पु [पटोल] पटोल, परवर, परोरा (पएण १)।

पओली स्त्री [प्रतोली] १ नगर के भीतर का रास्ता (अणु)। २ नगर का दरवाजा, 'गोउर पओली य' (पाअ, सुपा २६१, आ १२, उप पु ८५, भवि)।

पओवट्टाव देखो पज्जत्थाव। पओवट्टावेहि (पि २८४)।

पओवाह पु [पयोवाह] मेघ, बादल (पउम ८, ४६, से १, २४, सुर २, ८५)।

पओस सक [प्र + द्विप्] द्वेष करना, बैर करना। पओसइ (सुल १, १४)।

पओस पु [दे प्रद्वेष] प्रद्वेष, प्रकृष्ट द्वेष (ठा १०, अत, राय, आव ४, सुर १५, ५८, पुफ ४६५, कम्म १, महानि ४, कुप्र १०, स ६६६)।

पओस पुन [प्रदोप] १ सन्न्याकाल, दिन और रात्रि का सन्धि-काल (से १, ३४, कुमा)। २ वि प्रभूत दोषो से युक्त (से २, ११)।

पओहण (अप) देखो पवहण (भवि)।

पओहर पु [पयोधर] १ स्तन, धन (पाअ, से १, २४, गउड, सुर २, ८५)। २ मेघ, बादल (वजा १००)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)।

पक पुन [पक्क] १ कर्म, कीचड, कादा, कांदो, कीच, 'धम्ममित्तिपो लग्ग पकव गयणणणे' (आ २८, हे १, ३०, ४, ३५७, प्रासू २५), 'सुसइ व पक' (वजा १३४)। २ पाप (सुअ २, २)। ३ असयम, इन्द्रिय वगैरह का अनिग्रह (निडू १)। ४ आत्रलिआ स्त्री [व्तिका] छन्द-विशेष (पिंग)। ५ पभा स्त्री [प्रभा] चौथी नरक-भूमि (ठा ७, इक)। ६ वहुल वि [वहुल] १ कर्म-प्रचुर (सम ६०)। २ पाप-प्रचुर (सुअ २, २)। ३ पुन, रत्नप्रभा नामक नरक-भूमि का प्रथम काण्ड (जीव ३)। ४ थ न [ज] कमल, पष (हे ३, २६, गउड, कुमा)। ५ वई स्त्री [वती] नदी-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)।

पकज देखो पक-य (सम्मत् ११८)।

पका स्त्री [पक्का] चौथी नरक-भूमि (इक, कम्म ३, ५)।

पकाभा स्त्री [पक्काभा] चौथी नरक-भूमि (उत्त ३६, १५८)।

पकावई स्त्री [पक्कावती] पुष्कल नामक विजय के पश्चिम तरफ की एक नदी (इक, ज ४)।

पंकिय वि [पङ्कित] पक-युक्त, कीचवाला (भग ६, ३, भवि)।

पकिल वि [पङ्किल] कर्मवाला (आ २८, गा ७६६, कम्म, कुप्र १८७)।

पकेरुह न [पङ्केरुह] कमल, पष (कम्म, कुप्र १४१)।

पख पु स्त्री [पक्ष] १ पख, पाँख, पाँख, पख (पि ७४, राय, पउम ११, ११८, आ १४)। २ पनरह दिन, पखवाडा (राज)। ३ सण न [सण] आसन विशेष (राय)।

पखि पु स्त्री [पखिन्] पखी, चिडिया, पखी (आ १४)। स्त्री ंणी (पि ७४)।

पखुडिआ स्त्री [दे] पख, पत्र (कुप्र २६, पखुडी } दे ६, ८)।

पग सक [ग्रह] ग्रहण करना। पगइ (हे ४, ४०६)।

पगण न [प्राङ्गण] आंगन (कुप्र २५०)।

पंगु वि [पङ्गु] पाद विकल, खड्ग, लगवा, सूता, खोडा (पाअ, पि ३८०, पिंग)।

पगुर सक [प्रा + वृ] ढकना, आच्छादन करना। पगुरइ (भवि)। संकृ, पगुरि वि (भवि)।

पगुरण न [प्रावरण] वल, कपडा (हे १, १७५, कुमा, गा ७८२)।

पगुल वि [पङ्गुल] देखो पगु (विपा १, १, स ७५, पाअ)।

पच वि व [पच्चन्] प्राच, ५ (हे ३, १२३, कप, कुमा)। १ डल न [कुल] पचायत (स २२२)। २ डलिय पु [कुलिक] पचायत मे बैठ कर विचार करनेवाला (स २२२)। ३ कत्तिय पु [कुत्तिक] भगवान् कुत्तुनाथ, जिनके पाँचों कल्याणक कृतिका नक्षत्र मे हुए थे (ठा ५, १)। ४ कप पु [कल्प] श्रीमद्रवाह्वामि-कृत प्राचीन ग्रन्थ का नाम (पचभा)। ५ रुहाणय न [कल्याणक] १ तीर्थकर का च्यवन, जन्म, दीना,

धत्ती स्त्री [धात्री] ? धार्द्र, उपमाता, दाई (स्वप्न १२२) । २ पृथिवी, भूमि । ३ आत्म-लक्ष्मी-वृक्ष, आवले का पेड़ (हे २, ८१) । देखो याई ।

धत्तूर पु [धत्तूर] ? वृक्ष-विशेष, धतूरा । २ न धतूरा का पुष्प (सुपा १२४) ।

धत्तूरिख वि [धत्तूरिख] जिसने धतूरा का नशा किया हो वह (सुपा १२४, १७६) ।

धदथ वि [ध्वस्त] ध्वस-प्राप्त, नष्ट, नाश हुआ (हे २, ७६, सण) ।

धन्न देखो वण्ण = धन्य (कुमा, प्रासू ५३, ८४, १५५, उवा) ।

धन्न न [धान्य] ? धान, अनाज, अन्न (उवा, सुर १, ४६) । २ धान्य विशेष, 'कुलत्थ तह धन्य कलाया' (पव १५६) । ३ धनिया (दसन ६) । 'कीट पु [कीट] नाज मे होनेवाला कीट, कीट-विशेष (जी १७) ।

'गिहि पुष्ठी [निधि] धान रखने का घर, कोष्ठागार, भंडार (ठा ५, ३) । 'परथय पु [प्रथय] धान का एक नाप (वव १) ।

'पिडग न [पिटक] नाज का एक नाप (वव १) । 'पुजिय न [पुजितधान्य] इनडा किया हुआ अनाज (ठा ४, ४) ।

'विकिखत्त न [विक्षिप्तधान्य] विकीर्ण अनाज (ठा ४, ४) । 'विरहिय न [विरहित-धान्य] वायु से इकट्ठा किया हुआ अनाज (ठा ४, ४) । 'सकडिदय न [सकपितधान्य] जेत से काटकर खले—खलिहान में लाया गया धान्य (ठा ४, ४) । 'गार न [गार] कोष्ठागार, धान रखने का गृह (निचू ८) ।

धन्ना स्त्री [धान्य] अन्न, अनाज, 'सालिज-वाईयात्रा धन्नायो सव्वजाईयो (उप ६८६ टी) ।

वन्ना स्त्री [वन्या] एक स्त्री का नाम (उवा) । वम सक [ध्मा] ? धमना, धौकना, भ्राग मे तपाना । २ शब्द करना । ३ वायु पुरना । धमइ (महा) । धमेइ (कुप्र १४६) । वह वमन (निचू ?) । क्वकू धम्ममाण (उवा, णाया १, ६) ।

वमग नि [वमायक] धमनेवाला (श्रीप) । धमण न [धमन] ? भ्राग मे तपाना (आचानि १, १, ७) । २ वायु-पुरण (पएह १, १) । ३ नि भन्ना, धमनी, भावी (राज) ।

धमणि } स्त्री [धमनि, 'नी] ? भन्ना, धमणी } धमनी, धौकनी । २ नावी, सिरा (विपा १, १, उवा, अत २७) ।

धमधम अक [धमवमाम्] 'धम-धम' भ्रावाज करना, 'धमधमइ सिर धणिय जायइ सुलपि भज्जए दिट्ठी' (सुपा ६०३) । वहू धमधमत, वमवमाअत, धमधमंत (सुपा ११४, नाट—मालती ११६, णाया १, ८) ।

धमास पु [धमास] वृक्ष-विशेष (पएह १७) ।

धमिअ वि [ध्मात] जिसमे वायु भर दिया गया हो वह, 'वमिओ सलो' (कुप्र १४६) ।

धमिय वि [ध्मात] भ्राग मे तपाया हुआ, 'धमियकणय फु काए हारविद हुण्ज' (मोह ४७) ।

धम्म पु [धर्म] ? एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । २ एक दिन का उपवास (सवोव ५८) ।

धम्म पुन [धर्म] ? शुभ कर्म, कुशल-जनक अनुष्ठान, सदाचार (ठा १, सम १, २, आचा, सूत्र १, ६, प्रासू ५२, ११४, स ५७) । २ पृथय सुकृत (सुर १, ५४, भ्राव ४) । ३ स्वभाव, प्रकृति (निचू २०) । ४ गुण, पर्याय (ठा २, १) । ५ एक अरूपी पदार्थ, जो जीव को गति-क्रिया मे सहायता पहुँचाता है (नव ५) । ६ वर्तमान अवसर्पणी काल में उत्पन्न पनहरवें जिन-देव (सम ४३, पडि) । ७ एक वणिक (उप ७२८ टी) । ८ स्थिति, मर्यादा (आचू २) । ९ धनुष, कामुक (सुर १, ५४, पाअ) । १० एक जैन मुनि (कप्प) । ११ 'सुवकृताङ्ग' सूत्र का एक अव्ययन (सम ४२) । १२ आचार, रीति, व्यवहार (कप्प) । 'उत्त पु [पुत्र] शिष्य (प्राह) । 'उर न [पुर] नगर-विशेष (वस १) । 'कखिअ वि [काङ्क्षित] धर्म की चाहवाला (भग) । 'कहा स्त्री [कथा] धर्म-सम्बन्धी बात (भग, सम १२०, णाया २) । 'कहि वि [कथिन्] धर्म कथा कहनेवाला, धर्म का उपदेशक (श्रीप ११५ भा, आ ६) । 'कामय वि [कामक] धर्म की चाहवाला (भग) । 'काय पु [काय] धर्म का साधन-भूत शरीर (पत्ता १८) । 'क्खाइ वि [ख्यायिन्] धर्म-प्रतिपादक (श्रीप) । 'क्खाइ वि

[ख्याति] धर्म से ख्यातिवाला, धर्मात्मा (श्रीप) । 'गुरु पु [गुरु] धर्म-दर्शांक गुरु, धर्माचार्य (इ १) । 'गुच वि [गुप्] धर्म-रत्नक (पद्) । 'वोस पु [घोप] कईएक जैन मुनि और आचार्यों का नाम (आचू १, ती ७, भ्राव ४, भग ११, ११) । 'चक न [चक्र] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र (पव ४०, सुपा ६२) । 'चकवट्टि पु [चक्र-वर्तिन्] जिन-देव (आचू १) । 'चकि पुं [चक्रिन्] जिन भगवान् (कुम्मा ३०) । 'जगणी स्त्री [जननी] धर्म की प्राप्ति करानेवाली स्त्री, धर्म-देशिका (पचा १६) । 'जस पुं [यशास्] जैनमुनि-विशेष का नाम (भ्राव ४) । 'जागरिया स्त्री [जागरी] ? धर्म-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण (भग १२, १) । २ जन्म से छठवें दिन मे किया जाता एक उत्सव (कप्प) । 'वमय पुं [ध्वज] ? धर्म-द्योतक ध्वज, इन्द्र-ध्वज (राय) । २ ऐरवत क्षेत्र के पाँचवें भावी जिन-देव (सम १५४) । 'वमाण न [ध्यान] धर्म-चिन्तन, शुभ ध्यान-विशेष (सम ६) । 'वमानि वि [ध्यानिन्] धर्म ध्यान से युक्त (भ्राव ४) । 'ट्टि वि [थिन्] धर्म का अभिलाषी (सूत्र १, २, २) । 'णायग वि [नायक] ? धर्म का नेता (सम १, पडि) । 'णु वि [ज्ञ] धर्म का ज्ञाता (वस ४) । 'तिरथयर पु [तीर्थकर] जिनभगवान् (उत्त २३, पडि) । 'थ न [थ] अन्न-विशेष, एक प्रकार का हथियार (पउम ७१, ६३) । 'थि काय पु [स्थिकाय] गति-क्रिया मे सहायता पहुँचाने वाला एक अरूपी पदार्थ (भग) । 'दय वि [दय] धर्म की प्राप्ति करानेवाला, धर्म-देशक (भग) । 'दार न [द्वार] धर्म का उपाय (ठा ४, ४) । 'दार पुव. [दार] धर्म-पत्नी (कप्प) । 'दास पु [दास] भगवान् महावीर का एक शिष्य और उपदेशमाला का कर्ता (उव) । 'देव पुं [देव] एक प्रसिद्ध जैन (आचार्य (सार्ध ७८) । 'देसग, 'दसय वि [देशक] धर्म का उपदेश करनेवाला (राज, भग, पडि) । 'धुरा स्त्री [धुरा] धर्मरूप

[ख्याति] धर्म से ख्यातिवाला, धर्मात्मा (श्रीप) । 'गुरु पु [गुरु] धर्म-दर्शांक गुरु, धर्माचार्य (इ १) । 'गुच वि [गुप्] धर्म-रत्नक (पद्) । 'वोस पु [घोप] कईएक जैन मुनि और आचार्यों का नाम (आचू १, ती ७, भ्राव ४, भग ११, ११) । 'चक न [चक्र] जिनदेव का धर्म-प्रकाशक चक्र (पव ४०, सुपा ६२) । 'चकवट्टि पु [चक्र-वर्तिन्] जिन-देव (आचू १) । 'चकि पुं [चक्रिन्] जिन भगवान् (कुम्मा ३०) । 'जगणी स्त्री [जननी] धर्म की प्राप्ति करानेवाली स्त्री, धर्म-देशिका (पचा १६) । 'जस पुं [यशास्] जैनमुनि-विशेष का नाम (भ्राव ४) । 'जागरिया स्त्री [जागरी] ? धर्म-चिन्तन के लिए किया जाता जागरण (भग १२, १) । २ जन्म से छठवें दिन मे किया जाता एक उत्सव (कप्प) । 'वमय पुं [ध्वज] ? धर्म-द्योतक ध्वज, इन्द्र-ध्वज (राय) । २ ऐरवत क्षेत्र के पाँचवें भावी जिन-देव (सम १५४) । 'वमाण न [ध्यान] धर्म-चिन्तन, शुभ ध्यान-विशेष (सम ६) । 'वमानि वि [ध्यानिन्] धर्म ध्यान से युक्त (भ्राव ४) । 'ट्टि वि [थिन्] धर्म का अभिलाषी (सूत्र १, २, २) । 'णायग वि [नायक] ? धर्म का नेता (सम १, पडि) । 'णु वि [ज्ञ] धर्म का ज्ञाता (वस ४) । 'तिरथयर पु [तीर्थकर] जिनभगवान् (उत्त २३, पडि) । 'थ न [थ] अन्न-विशेष, एक प्रकार का हथियार (पउम ७१, ६३) । 'थि काय पु [स्थिकाय] गति-क्रिया मे सहायता पहुँचाने वाला एक अरूपी पदार्थ (भग) । 'दय वि [दय] धर्म की प्राप्ति करानेवाला, धर्म-देशक (भग) । 'दार न [द्वार] धर्म का उपाय (ठा ४, ४) । 'दार पुव. [दार] धर्म-पत्नी (कप्प) । 'दास पु [दास] भगवान् महावीर का एक शिष्य और उपदेशमाला का कर्ता (उव) । 'देव पुं [देव] एक प्रसिद्ध जैन (आचार्य (सार्ध ७८) । 'देसग, 'दसय वि [देशक] धर्म का उपदेश करनेवाला (राज, भग, पडि) । 'धुरा स्त्री [धुरा] धर्मरूप

पंचगुलिआ जी [पञ्चाङ्गुलिका] वल्की-
विशेष (पराण १—पत्र ३३)।

पचग वि [पञ्चक] पाँच (रुपाया आदि) की
कीमत का (दमनि ३, १३)।

पचग न [पञ्चक] पाँच का समूह (आचा)।

पंचजण्य पुं [पाञ्चजन्य] श्रीकृष्ण का शक
(काप्र ८६२, गा ६७४)।

पचत्त } न [पञ्चत्व] १ पाँचपन, पञ्च-
पचत्तण } रूपता (सुर १, ५)। २ मरण,
मौत (सुर १, ५, सण, उप पु १२४)।

पचपुड वि [पञ्चपुण्ड] पाँच स्थानो मे
पुरण्ड-चिह्न (सफेदी) वाला (पिड भा ४३)।

पंचपुल पुन [दे] मत्स्य-वन्दन विशेष,
मछली पकड़ने का जाल विशेष (विपा १,
८—पत्र ८५ टी)।

पचम वि [पञ्चम] १ पाँचवाँ (उवा)। २
पु. स्वर-विशेष (ठा ७)। ३ धारा जी
[धारा] अरब की एक तरह की गति
(महा)।

पंचमहद्वभूद्व वि [पाञ्चमहाभूतिक]
पाच महाभूती को माननेवाला, साख्यमत
का अनुयायी (सूत्र २, १, २०)।

पचमासिअ वि [पाञ्चमासिक] १ पाँच
मास की उन्न का। २ पाँच मास मे पूर्ण
होनेवाला (अभिग्रह आदि)। जी ० आ
(सम २१)।

पंचमिय वि [पाञ्चमिरु] पाँचवाँ, पचम
(शोध ६१)।

पचमी जी [पञ्चमी] १ पाँचवी (प्राणा)।
२ तिथि-विशेष, पचमी तिथि (सम २६,
आ २८)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध अपादान
विभक्ति (भ्राणु)।

पचयन्न देखो पञ्चजण्य (शाया १, १६,
सुपा २६४)।

पंचलोइया जी [पञ्चलौकिना] बुजपरिसर्प-
विशेष, हाथ से चलनेवाले सर्प-जातीय प्राणी
की एक जाति (जीव २)।

पंचवडी जी [पञ्चवटी] पाँच वट-वृक्षवाला
एक स्थान, जहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने अपने
वनवास के समय ध्यावास किया था, इस स्थान
का अस्तित्व कई लोग 'नासिक' नगर के

पास गोदावरी नदी के किनारे मानते हैं, जब
कि आधुनिक गवेपक लोग बस्तर रजवाडे के
दक्षिणी छोर पर, गोदावरी के किनारे, इसका
होना सिद्ध करते हैं (उत्तर ८१)।

पचवयण पुं [पञ्चवदन] सिंह, मृगराज
(सम्मत १३८)।

पचामय न [पञ्चामृत] ये पाँच वस्तु—दही,
दूध, घी, मधु तथा शकर (सिरि २१८)।

पचाल पु [पाञ्चाल] कामशास्त्र-प्रणेता एक
ऋषि (सम्मत १३७)।

पञ्चाल पु व [पञ्चाल, पाञ्चाल] १ देश-
विशेष, पञ्जाब देश (शाया १, ८, महा,
पराण १)। २ पु पञ्जाब देश का राजा
(भवि)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)।

पचालिआ जी [पञ्चालिका] पुतली, काष्ठादि-
निर्मित छोटी प्रतिमा (कप्पु)।

पचालिआ जी [पाञ्चालिका] १ हुपद-राज
की कन्या, द्रौपदी (वेणी १५८)। २ गान
का एक भेद (कप्पु)।

पचावण्य } जीन [दे पञ्चपञ्चाशत्] १
पचावन्न } सख्या-विशेष, पचपन, ५५।
२ जिनकी सख्या पचपन होवे (हे २, १७४,
दे २, २७, दे २, २७ टि)।

पचावन्न वि [दे पञ्चवञ्चाश] पचपनवाँ
(पठम ५५, ६१)।

पचिदिय } वि [पञ्चेन्द्रिय] १ वह जीव
पचिद्रिय } जिसकी त्वचा, जीभ, नाक,
आँख और कान ये पाँचो इन्द्रियाँ हो (पराण
१, कप्पु, जीव १, भवि)। २ न त्वचा
आदि पाच इन्द्रियाँ (धर्म ३)।

पचिया जी [पञ्चिका] १ पाँच की सख्या-
वाला। २ पाँच दिन का (वध १)।

पचुवर जीन [पञ्चोदुम्बर] वट, पीपल,
रुदुम्बर, प्लाश और काकोदुम्बरी का फल
(भवि)। जी ० री (आ २०)।

पचुचरसय वि [पञ्चोत्तरशततम] एक
सौ पाचवाँ, १०५ वाँ (पठम १०५, ११५)।

पचेडिय वि [दे] विनाशिन, 'जेण लोयस्स
लोहत्तण फेडिय इडुकदप्पदप्पं च पचेडिय'
(भवि)।

पचेसु पुं [पञ्चेषु] कामदेव, कंदर्प (कप्पु,
रंभा)।

पछि पुं [पक्षिन्] पछी, पगो, पखेर,
चिडिया (उप १०३१ टी)।

पजर पुन [पञ्जर] १ आचार्य, उपाध्याय,
प्रवर्तक आदि मुनि-गण। २ उन्मार्ग-गमन-
निषेध, सम्मार्ग-प्रवर्तन। ३ स्वच्छन्दता-प्रति-
षेध (वच १)।

पजर न [पञ्जर] पिजरा, पिजडा (गडड,
कप्पु, अचु २)।

पजरिअ पु [दे] जहाज का कर्मचारी-विशेष
(सिरि ४२७)।

पजरिय वि [पञ्जरित] पिजरे मे बंद किया
हुआ (गडड)।

पजल वि [प्राञ्जल] सरल, सीधा, मड्डु
(सुपा २६४, वजा ३०)।

पञ्जलि पु जी [प्राञ्जलि] प्रमाण करने के लिए
जोडा हुआ वर-सपुट, हस्त न्यास-विशेष,
सयुक्त कर-द्वय (उवा)। ० उड पु [पुट]
अञ्जलि-मुट, सयुक्त कर-द्वय (सम १११,
श्रौप)। ० उड, ० कड वि [कृतप्राञ्जलि]
जिसने प्रणाम के लिए हाथ जोडा हो वह
(भग, श्रौप)।

पजिअ न [दे] यथेच्छ दान, मुँह-भागा दान,
'रायकुलेषु भमतो पजिअदाए पणिएहे'
(सिरि ११८)।

पड वि [पाण्ड्य] देश-विशेष में उत्पन्न।
जी ० डी, 'पडीए गडवालीपुलअणचववा'
(कप्पु)।

पड } पु [पण्ड, ० क] १ नपुंसक, कर्नाव
पडगा } (शोध ४६७, सम १५, पात्र)। २
पंड्य } न मेरु पर्वत का एक वन (ठा २,
३, इक)।

पडय देखो पंडव (हे १, ७०)।

पडर पु [पाण्डर] १ क्षीरस्वर नामक द्वीप का
अधिष्ठाता देव (राज)। २ श्वेत वण, सफेद
रंग। ३ वि श्वेतवर्णवाला, सफेद (वप)।
० भिकखु पु [भिक्षु] श्वेताम्बर जैन सप्रदाम
का मुनि (स ५५२)।

पडर देखो पडर (स्वप्न ७१)।

पडरग पु [दे] छ. महादेव, शिव (दे ६,
२३)।

पडरगु पु [दे] शामेय, गाँव का अधिष्ठाता
(पट)।

पडरिय देखो पंडुरिअ (भवि)।

धरग पु [दे] कपास (दे ५, ५८) ।

धरण पु [धरण] १ नाग-कुमार देवो का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३, श्रौप) । २ यदुवशीय राजा अन्वक-वृष्णि का एक पुत्र (अत ३) । ३ श्रेष्ठि-विशेष (उप ७२८ टी, सुपा ५५६) । ४ न धारण करना (से ३, ३, सार्ध ६, वजा ४८) । ५ सोलह तोले का एक परिमाण (जो २) । ६ धरना देना, लघन-पूर्वक उपवेशन (पव ३८) । ७ तोलने का साधन (जा २) । ८ वि धारण करनेवाला (कुमा) । ९ प्यभ पु [प्रभ] धरणेन्द्र का उपात-पर्वत (ठा १०) ।

धरणा स्त्री [वरणा] देखो धारणा (एदि) ।

धरणि स्त्री [धरणि] १ भूमि, पृथिवी (श्रौप, कुमा) । २ भगवान् अरनाथ की शासन-देवी (मति १०) । ३ भगवान् वासुदेव्य की प्रथम शिष्या (सम १५२, पव ६) । ४ स्त्रील पु [नील] मेरु पर्वत (सुज ५) । ५ चर पु [चर] मनुष्य (पउम १०१, ४७) । ६ वर पु [धर] १ पर्वत, पहाड (अजि १७) । २ अयोध्या नगरो का एक सूर्य-वशीय राजा (पउम ५, ५०) । ३ धरणवर पु [धरणवर] मेरु पर्वत (अजि १५) । ४ धरवइ पु [धरपति] मेरु पर्वत (अजि १७) । ५ धरा स्त्री [वरा] भगवान् विमलनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) । ६ यल न [तल] भूमि तल, भूतल (शाया १, २) । ७ ड पु [पति] भू पति, राजा (सुपा ३३४) । ८ धट्ट न [धट्ट] मही-पीठ, भूमि-तल (महा) । हर देखो धर (से ६, ३६) ।

धरणिद्र पु [धरणेन्द्र] नाग-कुमारो की दक्षिण दिशा का इन्द्र (पउम ५, ३८) ।

धरणिसिग पु [वरणिश्टङ्ग] मेरु पर्वत (सुज ५) ।

धरणी देवा धरणि (प्रासू २३, पि ५३, से २, २४, कुप्र २२) ।

धरा स्त्री [वरा] पृथिवी, भूमि (गडड, सुपा २०१) । १ धर, २ हर पु [वर] पर्वत, पहाड (से ६, ७६, ३८, स २६६, ७०३, उप ७६८ टी) ।

धरा नाम पु [नराधीश] राजा (मोह ४३) ।

धराविअ वि [धारित] पकडा हुआ (स २०६, सुपा ३२५, सक्ति ३४) । २ स्थापित, 'धराविय मडय' (कुप्र १४०) ।

धरिअ वि [धृत] १ धारण किया हुआ (गा १०१, सुपा १२२) । २ रोका हुआ (म २०६) ।

धरिज्जत } देखो धर = धृ ।
धरिज्जमाण }

धरिणी स्त्री [धरिणी] पृथिवी, भूमि (पाश्र) ।

धरिन्ती स्त्री [धरिन्ती] पृथिवी, भूमि (श्रु १२७, सम्मत २२६) ।

धरिम न [धरिम] १ जो तराजू मे तौल कर बेचा जाय वह (आ १८, शाया १, ८) । २ ऋण, करजा (शाया १, १) । ३ एक तरह की नाप, तौल (जो २) ।

धरियव्व देखो धर = धृ ।

धरिस अक [धृप] १ सहत होना, एकत्रित होना । २ प्रगल्भता करना, ढीठाई करना । ३ मिलना, सबद्ध होना । ४ सक. हिंसा करना, मारना । ५ अमर्ष करना, सहन नही करना । धरिसइ (राज) ।

धरिस सक [धर्पय] झुक्न करना, विचलित करना । धरिसेइ (उत्त ३२, १२) ।

धरिसण न [धर्पण] १ परिभव, अभिभव । २ सहति, समूह । ३ अमर्ष, असहिष्णुता । ४ हिंसा, ५ बन्धन, योजन (निद्रू १, राज) । ६ प्रगल्भता, घुटता, ढीठाई (श्रौप) ।

धरेंत देखो धर = धृ ।

धव पु [धव] १ पति, स्वामी (शाया १, १, वव ७) । २ वृक्ष-विशेष (परण १, उप १०३१ टी, श्रौप) ।

धवक अक [दे] धडकना, भय से व्याकुल होना, धुकधुकाना । धवकइ (सण) ।

धवक्खिय वि [दे] धडका हुआ, भयसे व्याकुल बना हुआ (सण) ।

धवण न [धावण] धीन, चावल आदि का धावन-जल (सूक्त ८८) ।

धवल पु [ट] स्व-जाति मे उत्तम (दे ५, ५७) ।

धवल न [धवल] लगातार मोलह दिन का उपवास (मवोच ५८) ।

धवल वि [धवल] १ सफेद, श्वेत (पाश्र, सुपा २८५) । २ पुं उत्तम वैल (गा ६३८) । ३ पुन छन्द-विशेष (पिंग) । ४ गिरि पु [गिरि] वैलास पर्वत (ती ४६) । ५ गेह न [गेह] प्रासाद, महल (कुमा) । ६ चट्ट पु [चन्द्र] एक जैन मुनि (द ४७) । ७ रव पु [रव] मंगलगीत (सुपा २६५) । ८ हर न [गृह] प्रासाद, महल (आ १२, महा) ।

धवल सक [धवलय्] सफेद करना । धवलइ (पि ५५७) । कवक धवलज्जत (गडड) । धवलक न [धवलक] ग्राम-विशेष, जो आजकल 'धोलका' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है (ती ३) ।

धवलण न [धवलण] सफेद करना, श्वेतीकरण (कुमा) ।

धवलसण पु [दे] हंस (दे ५, ५६, पाश्र) ।

धवला स्त्री [धवला] गौ, गैया (गा ६३८) ।

धवलाअ अक [धवलाय्] सफेद होना । धवलाअत (गा ६) ।

धवलाइअ वि [धवलायित] १ उत्तम वैल की तरह जिसने कार्य किया हो वह । २ न उत्तम वृषम की तरह आचरण (सार्ध ६) ।

धवलमि पुत्री [धवलमिन्] सफेदपन, शुद्धता, सफेदी (सुपा ७४) ।

धवलिय वि [धवलित] सफेद किया हुआ (भवि) ।

धवली स्त्री [धवली] उत्तम गौ, श्रेष्ठ गैया (गडड) ।

धव्व पु [दे] वेग (दे ५, ५७) ।

धस अक [धस्] १ धसना । २ नीचे जाना । ३ प्रवेश करना । धसइ, धसउ (पिंग) ।

धस पु [धस्] 'धस्' ऐसा आवाज, गिरने की आवाज, 'धसत्ति महिमडले पडिअो' (महा, शाया १, १—पन ४७) ।

धसक पु [दे] हृदय की धवराहट की आवाज, गुजराती मे 'धासको', 'तो जायहिमवसका' (आ १४, कुप्र ४३५) ।

धसक्खिअ वि [दे] खूब धववाया हुआ (आ १४) ।

धसल वि [दे] विस्तीर्ण, फैला हुआ (दे ५, ५८) ।

पंथाण देखो पंथ = पन्थ, पथिन्, 'पंथभाणे पयाणंभाणे' (आउ ११) ।

पथिअ पु [पन्थिक, पथिक] मुसाफिर, पन्थ, 'पथिअ ए एथ सथर' (काप्र १५८, महा, कुमा, राया १, ८, वजा ६०, १५८) ।

पंथुच्छुहणी छी [दे] श्वशुर-गृह से पहली बार आनीत छी (दे ६, ३५) ।

पंपुअ वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे ६, १२) ।

पफुल्ल वि [प्रफुल्ल] विकसित (पिण) ।

पफुलिअ वि [दे] गवेपित, जिसकी खोज की गई हो वह (दे ६, १७) ।

पस सक [पासय्] मलिन करना । पसेई (विसे ३०५२) ।

पंसण वि [पासन] कलकित करनेवाला, दूषण लगानेवाला (हे १, ७०, सुपा ३४५) ।

पसु पुं [पासु, पाशु] घूली, रज, रेणु (हे २६, पाप्र, आचा) । 'कीलिय, कीलिय वि [कीडित] जिसके साथ वचन मे पाशु क्रीडा की गई हो वह, वचन का दोस्त (महा, सण) । 'पिसाय पुत्री [पिशाच] जो रेणु-लिस होने के कारण पिशाच के तुल्य मालूम पडता हो वह (उत १२) । 'मूलिय पु [मूलिक] विद्याधर, मनुष्य-विशेष (राज) ।

पसु पु [पशु] कुठार, फरसा (हे १, २६) ।

पसु देखो पसु (पड्) ।

पसुखार पु [पाशुखार] एक तरह का नोन, ऊपर लवण (दस ३, ८) ।

पसुल पु [दे] १ कोकिल, कोयल । २ जार, उपपत्ति (दे ६, ६६) । ३ वि रुढ, रोका हुआ (पड्) ।

पसुल पुं [पासुल] १ पुषल, परली-सम्पद (गा ५१०, ५६६) । २ वि. धूलि-युक्त (गड्ड) ।

पंसुला छी [पासुला] कुलटा, व्यभिचारिणी छी (कुमा) ।

पसुलिअ वि [पासुलित] धूलि-युक्त किया हुआ, 'पसुलिअकरेण' (गड्ड) ।

पसुलाआ छी [दे पाशुला] पार्श्व की दहरे (पय २५३) ।

पसुली छी [पासुली] कुलटा, व्यभिचारिणी छी (पाप्र, सुर १५, २, हे २, १७६) ।

पकंथ देखो पगथ (आचा १, ६, २) ।

पकथग पु [प्रकथक] ग्रन्थ-विशेष, एक प्रकार का षोडा (ठा ४, ३—पत्र २४८) ।

पकप पुं [प्रकम्प] कम्प, कापना (आव ४) ।

पकपण न [प्रकम्पन] ऊपर देखो (सुपा ६५१) ।

पकांपिअ वि [प्रकम्पित] प्रकम्प-युक्त, काँपा हुआ (आव २) ।

पकपिर वि [प्रकम्पित्] काँपनेवाला (उप पु १३२) । छी 'री (रभा) ।

पकड वि [प्रकृत] १ प्रस्तुत, प्रक्रान्त, उप-स्थित, असली, सच्चा (भग ७, १०—पत्र ३२४, १८, ७—पत्र ३५०) । २ कृत, निर्मित (भग १८, ७) ।

पकड देखो पगाड = प्रकट (भग ७, १०) ।

पकडूढ देखो पगाडूढ । कवक पकडूढज्ज-माण (औप) ।

पकडूढ वि [प्रकृष्ट] १ प्रकर्ष-युक्त । २ खीचा हुआ (औप) ।

पकडूढण न [प्रकर्षण] आकर्षण, खीचाव (निचू २०) ।

पकथ सक [प्र + कथ्] श्यावा करना, प्रशंसा करना । पकथइ (सुम १, ४, १, १६, पि ५४३) ।

पकप्प अक [प्र + क्लृप्] १ काम मे आना, उपयोग मे आना । २ काटना, छेदना । कृ पकप्प (ठा ५, १—पत्र ३००) । देखो पगप्प = प्र + क्लृप् ।

पकप्प सक [प्र + कल्पय्] १ करना, बनाना । २ सकल्प करना, 'वासं वयं वित्ति पकप्पयामो' (सुम २, ६, ५२) ।

पकप्प पु [प्रकल्प] १ चकृष्ट आचार, उत्तम आचरण (ठा ४, ३) । २ अपवाद, वाचक नियम (उप ६७७ टी, निचू १) । ३ अध्ययन-विशेष, 'आचाराग' सूत्र का एक अध्ययन । ४ व्यवस्थापन: 'अट्टावीसविहे आमारपकप्पे' (सम २८) । ५ कल्पना । ६ प्ररूपणा । ७ विच्छेद, प्रकृष्ट छेदन (निचू १) । ८ जैन साधुओ का एक प्रकार का आचार, स्वधिर-

कल्प (पचभा) । ६ एक महाग्रह, ज्योतिष देव-विशेष (सुज २०) । 'गंथ पुं [प्रन्थ] एक प्राचीन जैन ग्रन्थ, 'निशीथ' सूत्र (जीव १) । 'जइ पु [यति] 'निशीथ' अध्ययन का जानकार साधु, 'धम्मो जिणपततो पकप्पजइया कहेयव्वो' (धम १) । 'धर वि [धर] 'निशीथ' अध्ययन का जानकार (निचू २०) । देखो पगप्प = प्रकल्प ।

पकप्पणा छी [प्रकल्पना] प्ररूपणा, व्याख्या, 'पसुवण ति वा पकप्पण ति वा एण्ठ' (निचू १) ।

पकप्पणा छी [प्रकल्पना] कल्पना (वेदप १४१, अज्ज १४२) ।

पकप्पधारि वि [प्रकल्पधारिन्] 'निशीथ' सूत्र का जानकार (वव १) ।

पकप्पि वि [प्रकल्पिन्] ऊपर देखो (वव १) ।

पकप्पिअ वि [प्रकल्पित] काटा हुआ, 'एसा परजुत्तिलया एण्ण पकपि (? कम्पि) । आ रोसा' (अज्ज १०२) ।

पकप्पिअ वि [प्रकल्पित] १ सकल्पित (इ २) । २ निर्मित (महा) । ३ न पूर्वोक्ति द्रव्य, 'ए यो अत्थि पकप्पिय' (सुम १, ३, ३, ४) । देखो पगप्पिअ ।

पकय वि [प्रकृत] प्रवृत्त, कार्य में लगा हुआ (उप ६२०) ।

पकर सक [प्र + कृ] १ करने का प्रारम्भ करना । २ प्रकर्ष से करना । ३ करना । पकरेइ, पकरति, पकरेत्ति (भग, पि ५०६) । वहु पकरेमाण (भग) । संकृ, पकरित्ता (भग) ।

पकर देखो पयर = प्रकर (नाट—वेणी ७२) ।

पकरण्या छी [प्रकरणता] करण, इति (भग) ।

पकरुहिअ वि [प्रकथित] जिनसे कहने वा प्रारम्भ किया हो वह (उप १०३१ टी; वपु) ।

पकाम न [प्रकाम] १ धर्यय, अत्यन्त (एणा १, १, महा, नाट—शकु २७) । २ पुं प्रकृष्ट अभिनाय (भग ७, ७) ।

पकाव (भय) सक [पच्] पकाना । पकानड (पिण, पि ४५४) ।

धारा स्त्री [दे] रण मुखः रण-भूमि का अग्रभाग (दे ५, ५६)।

धारा स्त्री [धारा] १ अन्न के आगे का भाग, धार (गडड, प्रासू ६२)। २ प्रवाह, खाली (महा)। ३ अन्न की गति-विशेष (कुमा, महा)। ४ जल धारा, पानी की धारा। ५ वर्षा, वृष्टि। ६ द्रव पदार्थ का प्रवाह रूप से पतन (गडड)। ७ एक राज-पत्नी (श्रावम)। °कयव पु [°कदम्ब] कदम्ब की एक जाति, जो वर्षा से फलती-फूलती है (कुमा)। °धर पु [°धर] मेघ (सुपा २०१)। °वारि न [°वारि] धारा से गिरता जल (भग १३६)। °वारिय वि [°वारिक] जहाँ धारा से पानी गिरता हो वह (भग १३, ६)। °हय वि [°हत] वर्षा से सिक्त (कम्प)। °हर देखो °धर (सुर १३, १६५)।

धारा स्त्री [धारा] मालव देश की एक नगरी (मोह ८८)।

धारावास पुं [दे] १ मेक, मेढक, बैंग (दे ५, ६३, पड्)। २ मेघ (दे ५, ६३)।

धारि वि [वारिन्] धारण करनेवाला (श्रीप, कम्प)।

धारित देखो धार = धार्य्।

धारिष्ठ न [धाष्टर्थ] घृष्टता, उद्वेगता, गर्व, साहस (प्रास्या० म० कोश० अ० २३ भावदीप्त कया पत्र ५२६)।

धारिणी देवो धारणी (श्रीप)।

धारित्तए देखो धार = धार्य्।

धारित् वि [धारित] धारण किया हुआ (भवि, श्राव)।

धारी देखो धत्ती (हे २, ८१)।

धारी देखो धारा (कुमा)।

धारेत्तण } देखो धार = धार्य्।
धारेयन्न }

धाव सक [वाय] १ दौटना। २ शुद्ध करना, धोना। धावइ (हे ४, २२८, २३८)। चक्रु धावंत, धावमाण (प्रासू ८४, महा, कम्प)। संक्रु धाविक्रण (महा)।

धावण न [धावन] १ वेग मे गमन, दौटना। (सूभ १, ७)। २ प्रनालन, धोना, (कुप्र १६४)।

धावणय पुं [धावनक्रु] दौडते हुए समाचार पहुँचाने का काम करनेवाला, हरकारा, सवेसिया (सुपा १०५, २६५)।

धावणया स्त्री [धान] स्तन-पान करना (उप, ८३३)।

धावमाण देखो धाव।

धाविअ वि [धाविन्] दौडा हुआ (भवि)।

धाविर वि [धावित्] दौडनेवाला (सण, सुपा ५४)।

धावी देखो धार्डि = धात्री (उप १३६ टी, स ६६, सुर २, ११२, १६, ६८)।

धाहा स्त्री [दे] घाह, पुकार, चिल्लाहट (पडम ५३, ८८, सुपा ३१७, ३४०)।

धाहाविय न [दे] घाह, पुकार, चिल्लाहट (स ३७०, सुपा ३८०, ४६६, महा)।

धाहिय वि [दे] पलायित, भागा हुआ (वम्म ११ टी)।

धि अ [धिक्] चिक्कार, छो (रभा)।

धिइ स्त्री [धृति] १ धैर्य, धीरज (सूभ १, ८, पड्)। २ धारण (श्रावम)। ३ धारणा, ज्ञात विषय का अविस्मरण (विसे)। ४ धरण, अवस्थान (सूभ १, ११)। ५ अहिंसा (परह २, १)। ६ वेध की अविष्ठायिका देवी। ७ देवी की प्रतिमा-विशेष (राज, णाया १, १ टी—पत्र ४३)। ८ तिमिच्छिद्रह की अविष्ठायिका देवी (इक, ठा २३)। °कूड न [°कूट] धृति-देवी का अविष्ठित शिखर-विशेष (ज ४)। °धर पु [°धर] १ एक अन्तःकृद् महर्षि। २ 'अतगड-दसा' सूत्र का एक अव्ययन (अत १८)। °म, °मंत वि [°मत्] धीरजवाला (ठा ८, परह २, ४)।

धिइ स्त्री [धृति] तेला, लगातार तीन दिन का उपवास (सजोच ५८)।

धिक्य वि [धिक्रुत] १ चिक्कारा हुआ (वव १)। २ न चिक्कार, तिरस्कार (वह ६)।

धिकरण न [धिकरण] तिरस्कार, चिक्कार (खाया १, १६)।

धिकरिअ वि [धिन्कृत] चिक्कारा हुआ (कुप्र १५७)।

धिकार पु [धिकार] १ चिक्कार, तिरस्कार (परह १, ३, द्र २६)। २ युगलिक मनुष्यो के समय की एक दण्ड-नीति (ठा ७—पत्र ३६८)।

धिकार सक [चिक् + कारय्] चिक्कारना, तिरस्कार करना। कवकृ धिकारिज्जमाण (पि ५६३)।

धिज्ज न [धेय] धीरज, धृति (हे २, ६४)। धिज्ज वि [धेय] धारण करने योग्य (खाया १, १)।

धिज्ज नि [धेय] ध्यान योग्य, चिन्तनीय (खाया १, १)।

धिज्जाइ पुष्ठी [द्विजाति, विगुजाति] ब्राह्मण, विप्र। स्त्री 'तत्य महा नाम विज्जाइणी' (श्रावम)।

धिज्जाइय पुष्ठी [द्विजातिक्रु, विरज्जा-धिज्जाइय] तीर्थ ब्राह्मण, विप्र (महा, उप १२६, श्राव ३)।

धिज्जाविय न [धिगुजीवित] निम्नवीय जीवन (सूभ २, २)।

धिद्वि वि [धृष्ट] ढीठ, प्रगल्भ। २ निर्लज्ज, वेशरम (हे १, १३०, सुर २, ६, गा ६२७, धा १४)।

धिद्विज्जुण देखो धद्विज्जुण (पि २७८)।

धिद्विम् पुष्ठी [धृष्टस्व] घृष्टता, ढीठाई (सुपा १२०)।

धिद्वी } अ [चिक् चिक्] छो छो (उप, विवी } न ६१, रभा)।

धिप्प अक [दीप्] दीपना, चमकना। विप्पइ (हे १, २२३)।

धिप्पिर वि [दीप्] देदीप्यमान, चमकीला (कुमा)।

धिय अ [चिक्] चिक्कार, छो, 'वेइ गिरं विय म्पुडिय' (उप ६३४)।

धिरस्थु अ [विगस्तु] चिक्कार हो (खाया १, १६, महा, प्राळ)।

धिसण पु [धिपण] बृहस्पति, सुर-गुरु (पाम्प)।

धिसि अ [चिक्] चिक्कार, छो (सुपा ३६५, सण)।

धी देखो धीआ, 'ज मगलं कुंभनिवस्स धीए मल्लोइ राईसरवदि ध्राए' (मगल १२, २०)।

पक्खतर न [पक्षान्तर] अन्य पक्ष, भिन्न पक्ष, दूसरा पक्ष (नाट—महावी २५)।

पक्खद सक [प्र + स्कन्द] १ आक्रमण करना। २ दौड़कर गिरना। ३ अध्ययन करना, 'पक्खदे जलिय जोइ धूमकेउ दुरासय' (राज), 'अर्गाण व पक्खद पयगसेणा' (उत्त १२, २७)।

पक्खदण न [प्रस्कन्दन] १ आक्रमण। २ अध्ययन। ३ दौड़कर गिरना (निच्च ११)।

पक्खदोलग पु [पक्ष्यन्दोलक] पक्षी का हिंडोला, झूला (राय ७५)।

पक्खज्जमाण वि [प्रजाद्यमान] जो खाया जाता हो वह (सुम १, ५, २)।

पक्खडिअ वि [दे] प्रस्फुरित, विजृम्भित, समुत्पन्न, 'पक्खडिअ सिहिपडित्थिरे विरुहे' (दे ६, २०)।

पक्खर सक [स + नाहय] संनद्ध करना, अश्व को कवच से सज्जित करना। पक्खरेह (सुपा २८८)। सक पक्खरिअ (पिग)।

पक्खर पुं [प्रक्षर] क्षरण, टपकना (कर्पूर २६)।

पक्खर पु [दे] जहाज की रक्षा का एक उपकरण, सामग्री (सिरि ३८७)।

पक्खर न [दे] पाखर, अश्व-सनाह, घोड़े का कवच (कुप्र ४४६, पिग)।

पक्खरा जी [दे] पाखर, अश्व-सनाह (दे ६, १०), 'ओसारिअपक्खरे (विपा १, २)।

पक्खरिअ वि [सनद्ध] कवचित, संनद्ध, कवच से सज्जित (अश्व) (सुपा ५०२, कुप्र १२०, भवि)।

पक्खल अक [प्र + खल] गिरना, पडना, खलित होना। पक्खलइ (कस)। वक्र, पक्खलत, पक्खलमाण (दस ५, १, पि ३०६, नाट—मुच्छ १७, बृह ६)।

पक्खालज्ज न [पक्षातोय] पक्षाज, पक्षावज, एक प्रकार का बाजा, मृदग (कम्प)। पक्खाय वि [प्रख्यात] प्रसिद्ध, विश्रुत (प्राह)।

पक्खारिण पुं [प्रक्षारिण] १ अनार्य-देश विशेष २ २ पुंजी उस देश का निवासी मनुष्य। जी १णी (राय)।

पक्खाल सक [प्र + क्षालय] पखारना, शुद्ध करना, धोना। कवक पक्खालिजमाण (शाया १, ५)। संक पक्खालिअ, पक्खालिऊण (नाट—चैत ४०, महा)।

पक्खालण न [प्रक्षालन] पखारना, धोना (स ५२, औप)।

पक्खालिअ वि [प्रक्षालित] पखारा हुआ, धोया हुआ (औप, भवि)।

पक्खारण न [पद्यामन] आसन-विशेष, जिसके नीचे अनेक प्रकार के पक्षियों का चित्र हो ऐसा आसन (जीव ३)।

पक्खि पुत्री [पक्षिन्] पाखी, पक्षी (ठा ४, ४, आचा, सुपा ५६२)। जी १णी (था १४)। विराल पुत्री [विराल] पक्षि-विशेष (भग १३, ६)। जी १ली (जीव १)। राय पु [राज] गहड़ (सुपा २१०)। नीचे देखो।

पक्खिअ पुत्री [पक्षिक] १ ऊपर देखो (था २८)। २ वि.पक्षपाती, तरफदारी करनेवाला, 'तप्पक्खिअो पुणो अणो' (था १२)।

पक्खिअ वि [पाक्षिक] स्वजन, जाति का (पव २६८)।

पक्खिअ वि [पाक्षिक] १ पाख में होनेवाला। २ पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाला, अर्ध-मास सम्बन्धी (कम्प, धर्म २)। ३ न. पर्व-विशेष, चतुर्दशी (लहम १६, द्र ४५)। १पक्खिअ पु [पाक्षिक] नपुसक-विशेष, जिसको एक पाख में तीन विषयामिलाप होता हो और एक पक्ष में अल्प, ऐसा नपुसक (पुष्प १२७)।

पक्खिअण न [पाक्षिकायन] गोत्र विशेष, जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है (ठा ७)।

पक्खिण देखो पक्खि, 'जह पक्खिणाण गहडो' (पवम १४, १०४)।

पक्खिणी देखो पक्खि।

पक्खित्त वि [प्रक्षिप्त] फेंका हुआ (महा, पि १८२)।

पक्खिनाह पु [पक्षिनाथ] गहड़ पक्षी (धर्मवि ८४)।

पक्खिण } देखो पक्खिण।
पक्खिणपमाण }

पक्खिण सक [प्र + क्षिप्] १ फेंकना, फेंक देना। २ छोटना, ध्यागना। ३ डालना। पक्खिणइ (महा, कम्प)। पक्खिणइ (महा, कम्प)। पक्खिणइ, पक्खिणइ (आचा २, ३, २, ३)। कवक, पक्खिणपमाण (शाया १, ८—पत्र १२६, १४७)। सक. पक्खिणऊण, पक्खिणप (महा, सुम १, ५-१, पि ३१६)। क. पक्खिणवेयञ्च (व ६४८ टी)। प्रयो वक, पक्खिणवावेमाण (शाया १, १२)।

पक्खिण वि [प्रक्षीण] अत्यन्त क्षीण, 'अह पक्खीणविभवो' (महा)।

पक्खिणडिअ वि [प्रखण्डित] खरिहत, असंपूर्ण (सुपा ११६)।

पक्खिणअ अक [प्र + क्षुभ] १ क्षोभ पाना। २ वृद्ध होना, बढ़ना। वक पक्खिणअ (से २, २४)।

पक्खिणअत देखो पक्खिणअ।

पक्खिणअ वि [प्रक्षुभित] क्षोभ प्राप्त, असुख्य (औप)।

पक्खिण पु [प्रक्षेप] शास्त्र में पीछे से किसी के द्वारा डाला या मिलाया हुआ वाक्य (धर्मस १०११)। हार पु [हार] कवलाहार (सुमनि १७१)।

पक्खिण पु [प्रक्षेप, क] १ क्षेपण, पक्खिणग फेंकना, 'बहिंया पोगलपक्खिण' (उवा)। २ पूति करनेवाला द्रव्य, पूति के लिए पीछे से डाली जाती वस्तु, 'अपक्खिण-गस्स पक्खिण दलयइ' (शाया १, १५—पत्र १६३)।

पक्खिण न [प्रक्षेपण] क्षेपण, प्रक्षेप (औप)।

पक्खिणय देखो पक्खिणय (बृह १)।

पक्खिणअ सक [वि + कोशय] १ खोलना। २ फैलाना। पक्खिणअ (हे ४, ४२)। सक. पक्खिणडिऊण (सुपा ३३८)।

पक्खिणअ सक [शद] १ कपाना। २ भाव कर गिराना। पक्खिणअ (हे ४, १३०)। सक पक्खिणडिअ (व ५८४)।

धुत्तोरय न [धत्तूरक] धत्तूरे का पुष्प (वजा १०६)।

धुद्धुअ (अप) अक [शब्दाय्] आवाज करना। धुद्धुअइ (हे ४, ३६५)।

धुप्प देखो धिप्प। धुप्पइ (प्राक ७०)।

धुम्म पु [धूम] १ धूम, धुमा। २ वर्ण-विशेष, कपोत-वर्ण। ३ नि कपोत वर्ण-वाला। ४ कख पु [१क्ष] एक राक्षस (से १२, ६०)।

धुर न देखो धुरा (उप पृ ६३)।

धुर पु [धुर] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३)। २ कर्जदार, ऋणी, 'जस्त कल-सम्मि वहियावडाड तस्स धुरघण लम्भ-पुणरवि देउ धुराण' (सुपा ४२६)।

धुरधर वि [धुरधर] १ भार को वहन करने में समर्थ, किसी कार्य को पार पहुँचाने में शक्तिमान, भार-वाहक (से ३, ३६)। २ नेता, मुखिया, अगुआ (सण, उत्तर २०)। ३ पृ गाढी, हल आदि खींचनेवाला बैल (दे ८, ४४)।

धुरा ली [धुर] १ गाढी वगैरह का अग्र भाग, धुरी (उव)। २ भार, बोझ। ३ चिता (हे १, १६)। ४ धार वि [धार] धुरा को वहन करनेवाला, धुरधर (पलम ७, १७१)।

धुरी ली [धुरी] अक्ष, धुरा, गाढी का अग्र भाग (अणु)।

धुरीण वि [धुरीण] धुरधर, मुखिया, अगुआ (धर्मवि १३६, सम्मत ११८)।

धुव सक [धाव्] घौना, शुद्ध करना। धुवइ, धुवति (हे ४, २३८, गा ४३३, पिड २८)। वरु धुवत (से ८, १०२)। कवक धुवत, धुवमाण (गा ५६३, से ६, ४५, वजा २४, पि ५३८)।

धुव मक [धु] कपाना, हिलाना। धुवइ (हे ४, ४६, पड्)। कर्म धुवइ (कुमा)। कयक धुवत (कुमा)।

धुव नि [धुव] १ निरचल, स्थिर (जोव ३)। २ नित्य, शाश्वत, सर्वदा-स्वायी (ठा ५, ३, सूत्र २, ४)। ३ अवश्यमावी (सूत्र २, १)। ४ निश्चित, नियत (आचा)। ५ पु अथ के शरीर का आवर्त (कुमा)। ६ मोक्ष,

मुक्ति। ७ समय, इन्द्रियादि-निग्रह (सूत्र १, २, १)। ८ ससार (अणु)। ९ न मुक्ति का कारण, मोक्ष-मार्ग (आचा)। १० कर्म (अणु)। ११ अत्यन्त, अतिशय, 'धुवमो-गिएहइ' (ठा ६)। १२ कम्मिय पु [कर्मिक] लोहार आदि शिल्पी (वव १)। १३ चारि वि [चारिन्] मुमुक्षु, मुक्ति का अभिलाषी (आचा)। १४ गिमाह पु [निग्रह] आव-श्यक, अवश्य करने योग्य अनुष्ठान-विशेष (अणु)। १५ मग्ग पु [मार्ग] मुक्ति-मार्ग, मोक्ष-मार्ग (सूत्र १, ४, १)। १६ राहु पु [राहु] राहु-विशेष (सम २६)। १७ वण्ण पु [वर्ण] १ समय। २ मोक्ष, मुक्ति। ३ शाश्वत यश (आचा)। देखो धुअ = धुव।

धुवण न [धावन] १ प्रक्षालन (श्लो ७२, ३४७, स २७२)। २ वि कपानेवाला, हिलानेवाला। ली ०णी (कुमा)।

धुवण पुन [धूपन] १ धूप देना। धूम-पान (दस ३, ६)।

धुविया ली [धुविता] कर्म-विशेष, धुव-वन्धिनी कर्म-प्रकृति (पच ५, ६६)।

धुव्य देखो धुव = धाव्। धुवइ (सक्षि ३६)।

धुवत देखो धव = धु।

धुवत } देखो धुव = धाव्।
धुवमाण }

धुवअ वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (षड्)।

धुअ वि [धूत] देखो धुअ = धुत (आचा, दस ३, १३, पि ३१२, ३६२, सूत्र १, ४, २)।

धुअ देखो धूव = धूप (सुपा ६५७)।

धुअ न [धूत] पहले वैषा हुआ कर्म, पूर्व-कर्म (सूत्र २, २, ६५)।

धुआ ली [दुहित्] लडकी, पुत्री (हे २, १२६, प्रासू ६४)।

धूण पु [दे] गज, हाथी (दे ५, ६०)।

धूणिय वि [धूणित्] कम्पित (कुप्र ६८)।

धूम पु [धूम] १ हींग आदि वधार (पिड २५०)। २ क्रोध, गुस्सा। ३ वि क्रोधी (सवोव १६)।

धूम पुं [धूम] १ धूम, धुमा, अग्नि-चिह्न (गडड)। २ द्वेष, अप्रीति (पएह २, १)।

३ इगाल पु व [इङ्गार] द्वेष और राग (श्लो २८८ भा)। ४ केउ पुं [केलु] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३, पएह १, ५, औप)। २ वहि, अग्नि, आग (उत्त २२)।

३ अशुभ ज्वात का सूचक तारा-पुञ्ज (गडड)। ४ चारण पुं [चारण] धूम के अवलम्बन से आकाश में गमन करने की शक्तिवाला धुनि-विशेष (गच्छ २)। ५ जोणि पु [योनि] बादल, मेघ (पाम्)। ६ उम्भय देखो उद्भय (राज)। ७ दोस पु [दोष] भिक्षा का एक दोष, द्वेष से भोजन करना (आचा २, १, ३)। ८ उद्भय पु [ध्वज] वहि, अग्नि (पाम्, उप १०३१ टी)। ९ प्पभा, प्पहा ली [प्रभा] पाचवी नरक-पृथिवी (ठा ७, प्राड)। १० ल वि [ल] धुमाँ वाला (उप २६४ टी)। ११ वडल पुंन [पटल] धूम-समूह (हे २, १६८)। १२ वण्ण वि [वर्ण] पाण्डुर वर्णवाला (खाया १, १७)। १३ सिहा ली [शिखा] धुएँ का अग्रभाग (ठा ४, २)।

धूमग पु [दे] अमर, भौरा, अमरा (दे ५, ५७)। धूमण न [धूमण] धूम-पान (सूत्र २, १)। धूमहार न [दे] गवाक्ष, वातायन, अरोला (दे ५)।

धूमद्वय पुं [दे] १ तडाग, तलाव, तालाब २ महिष, भैंसा (दे ५, ६३)। धूमद्वयमहिशी ली व [दे] कृत्तिका नक्षत्र (दे ५, ६२)।

धूमपलियाम वि [दे] गर्त में डालकर आग लगाने पर भी जो कच्चा रह जाय वह (निचू १५)। धूममहिशी ली [दे] नीहार, कुहरा, कुहासा (दे ५, ६१, पाम्)।

धूमरी ली [दे] १ नीहार, कुहासा (दे ५, ६१)। २ तुहिन, हिम (पड्)। धूमसिहा } ली [दे] नीहार, कुहासा (दे ५, धूमा } ६१, ठा १०)।

धूमा देखो धूमाअ। धूमाइ (प्राक ७१)। धूमाअ अक [धूमाय्] १ धुमा २ जलाना। ३ धूम की तरह

पगामसो अ [प्रकामम्] अत्यन्त, अतिशय, 'पगामसो भुञ्चा' (उत्त १७, ३)।

पगार पु [प्रकार] ? भेद (आत्र १)। २ रीति 'एएण पगारेण सव्व, दव्व दवाविओ' (महा)। ३ आदि, वगैरह, प्रभृति (सूत्र १, १३)।

पगास देखो पयास = प्र + काशय्। वक् पगासेत्त (महा)।

पगास पु [प्रकाश] ? प्रभा, दीप्ति, चमक (साया १, १), 'एग मह नीलुप्पलमवल्लुलियग्रयसिक्कुसुमप्पगगासं अस्सि सुरवार गहाय' (उवा)। २ प्रसिद्धि, ख्याति (सूत्र १, ६)। ३ आविर्भाव, प्रादुर्भाव। ४ उद्घोत, आतप (राज)। ५ क्रोध, गुस्सा, 'छन्न च पसस यो करे न य उक्कोस पगास माहणे' (सूत्र १, २, २६)। ६ वि. प्रकट, व्यक्त (निचू १)।

पगासग देखो पगासय (राज)।

पगासण देखो पयासण (श्रीप)।

पगासणया छी [प्रकाशना] प्रकार, आलोक (श्लोक ५५०)।

पगासणा छी [प्रकाशना] प्रकटीकरण (उत्त ३२, २)।

पगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला (विसे ११५५)।

पगासिय वि [प्रकाशित] उद्द्योतित, दीप्त, 'से सूरियस्स अन्धुगमेण मग वियाणाह पगासियसि' (सूत्र १, १४, १२)।

पगिइ देखो पगइ (सबोध ३६)।

पगिज्ज अक [प्र + गृध्] आसक्ति का प्रारम्भ होना। पगिज्जला (उत्त ८, १६, सुख ८, १६)।

पगिज्जिय देखो पगिण्ह (कस, श्रीप, पि ५६१)।

पगिठु वि [प्रकृष्ट] ? प्रवान, सुव्य (सुपा ७७)। २ उत्तम, श्रेष्ठ (कुप्र २०, सुपा २२६)।

पगिण्ह सक [प्र + ग्रह्] ? ग्रहण करना। २ उठाना। ३ धारण करना। ४ करना। सङ्ग पगिण्हिता, पगिण्हिताण, पगिज्जिय (पि ५८२, ५८३, श्रीप, आचा २, ३, ४, १, कस)।

पगीअ वि [प्रगीत] ? गायता हुआ (पउम ३७, ४८)। २ जिसकी गीत गाई गई हो वह (उप २११ टी)।

पगीय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारम्भ किया हो वह (राय ४६)।

पगुण देखी पउण (सूत्र १, १, २)।

पगुणीकर सक [प्रगुणी + क्] प्रगुण करना, तम्पार करना, सज्ज करना। कवक्क. पगुणीकीरत (सुर १३, ३१)।

पगे अ [प्रगे] सुवह, प्रभात काल (सुर ७, ७८, कुप्र १५५)।

पगस सक [ग्रह्] ग्रहण करना। पगइ (पड्)।

पगल वि [दे] पागल, उन्मत्त (प्राक्. १०-)।

पगह पु [प्रग्रह] खाने के लिए उठायी हुआ भोजन-पान (सूत्र २, २, ७३)।

पगह पु [प्रग्रह] ? उपधि, उपकरण (श्लोक ६६६)। २ लगाम (से ६, २७, १२, ६६)। ३ पशुओ को नाक में लगाई जाती डोरी, नाक की रस्ती, नाथ। ४ पशुओ को बांधने की डोरी, रस्ती, पगहा (साया १ ३, उवा)। ५ नायक, मुखिया (ठा १)। ६ ग्रहण, उपादान। ७ योजन, जोड़ना, 'अंजलिपगहेण' (भग)।

पगहिअ वि [प्रगृहीत] ? ग्रन्थुपगत, सम्यक् स्वीकृत (अनु ३)। २ प्रकर्ष से गृहीत (भग, श्रीप)। ३ उठायी हुआ (धर्म ३, ठा ६)।

पगहिय वि [प्रग्रहिक] ऊपर देखो (उवा)।

पगिगम } (अप) अ [प्रायस्] प्राय
पगिगम्ब } बहुधा (पड्, हे ४, ४१४, कुमा)।

पग्गेज्ज पु [दे] निकर, सम्ह (दे ६, १५)। पघस सक [प्र + घृप्] फिर-फिर घिसना। पघसेज्ज (निचू १७)। प्रयो वक्क पघसावत (निचू १७)।

पघसण न [अघर्षण] पुन पुन घर्षण, 'एक्क दिण्ण आघसण, दिणे दिणे पघसण' (निचू ३)।

पघोल अक [प्र + घूर्णय्] मिलना, संगत होना। वक्क 'कठपपोलत्तपचमुगारो' (कुप्र २२६)।

पघोस पु [प्रघोप] उच्चै शब्द-प्रकार, उच्चोपणा (भवि)।

पघोसिय वि [प्रघोपित] घोषित किया हुआ, उच्च स्वर से प्रकाशित किया हुआ (भवि)।

पच सक [पच्] पकाना। पचइ, पचए, पचत्ति, पचत्ति, पचसे, पचह, पचत्थ, पचामि, पचामो, पचामु, पचाम, पचिमो, पचिमु (सस्ति ३०, पि ४३६, ४५५)। कवक्क पच्चमाण, 'नएण नेरइयाएण अहोतिस्सि पचमाणाए' (सुर १४, ४६, सुपा ३२८)।

पच (अप) देखो पच। 'आलीस, तालीस खीन [चत्वारिंशत्] ? सख्या-विशेष, पेशावीस, ४५। २ पेशावीस सख्या जिनकी हो वे (पि २७३, ४४५, पिग)।

पचकमणगा न [प्रचङ्कमण, क] पाँव से चलना (श्रीप)।

पचकमावणा न [प्रचङ्कमण] पाँव से सचारण, पाँव से चलाना (श्रीप १०५ दि)।

पचड देखो पयड (वव ८)।

पचलिय देखो पयलिय = प्रचलित (श्रीप)।

पचार सक [प्र + चारय्] चलाना। पचारैइ (सिरि ४३५)।

पचार पु [प्रचार] विस्तार, फैलाव (मोह २०)। देखो पचार = प्रचार।

पचाल सक [प्र + चालय्] अतिशय चलाना, ध्रुव चलाना। वक्क पचालेमाण (भग १७, १)।

पचिय वि [प्रचित] समृद्ध (स्वन्न ६६)।

पचीस (अप) खीन [पञ्चविंशति] ? पचीस, सख्या-विशेष, बीस और पाँच, २५। २ जिनकी सख्या पचीस हो वे (पिग, पि २७३)।

पचुञ्जिय वि [प्रचूर्णित] चूर-चूर किया हुआ (सुर २, ८७)।

पचेलिम वि [पचेलिम] पक्व, पका हुआ। 'सदमहुरपचेलिमफलोहि' (सुपा ८३)।

पचोइअ वि [प्रचोदित] प्रेरित (सूत्र १, २, ३)।

पच्चइग देखो पच्चइय = प्रत्ययिक (सुख २, १७)।

न देखो रा

१ प्राकृत भाषा में नकारादि सब शब्द एकारादि होते हैं, अर्थात् आदि के नकार के स्थान में नित्य या विकल्प से 'ए' होनेका व्याकरणो का सामान्य नियम है (प्राप्र २, ४२, दे ५, ६३ टी. हे १, २२६, षड् १, ३, ५३), और प्राकृत-साहित्य-ग्रन्थों में दोनों तरह के प्रयोग पाए जाते हैं। इससे ऐसे सब सब शब्द एकार के प्रकरण में आ जाने से यहाँ पर पुनरावृत्ति कर व्यर्थ में पुस्तक को कलेवर बढ़ाना उचित नहीं समझा गया है। पाठकगण एकार के प्रकरण में आदि के 'ए' के स्थान में सर्वत्र 'न' समझ लें। यही कारण है कि नकारादि शब्दों के भी प्रमाण एकारादि शब्दों में ही दिए गए हैं।

प

प पु [प] १ श्रोष्ठ स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप)। २ पाप-त्याग, 'पत्ति य पाववज्जरो' (भावम)।

प अ [प्र] इन अर्थों का सूचक अक्षय—१ प्रकर्ष, 'पग्रोस' (से २, ११)। २ प्रारम्भ, 'पणमिअ', 'पकरेइ' (ज १, मग १, १)। ३ उत्पत्ति। ४ क्याति, प्रसिद्धि। ५ व्यवहार। ६ चारो ओर से (निचू १, हे २, २१७)। ७ प्रसवण, सूत्र (विसे ७८१)। ८ फिर-फिर (निचू ३, १७)। ९ गुजरा हुआ, विनष्ट, 'पासुअ' (ठा ४, २—पन २१३ टी)।

प° वि [प्राच्] पूर्व तरफ स्थित (भवि)।

पार्श्व प पु [प्लवङ्गम] छन्द-विशेष (पिंग)।

पअघ पु [प्रजङ्ग] राक्षस-विशेष (से १२, ८३)।

पअठम देखो पाठम = प्रगल्भ (प्राकृ ७८)।

पइ म [प्रति] १ अपेक्षा-सूचक (दसनि ३, १)। २ लक्ष्य, तरफ, ओर, 'अक्षयच्छ पइ चतिय (सम्मत् १४१, धर्मनि ५६)।

पइ पु [पति] १ घब, सर्वा, परवरिण करने-वाला (पाम, गा १५६, कप्प)। २ मालिक।

३ रक्षक, 'भूवई', 'तिअसगणवई', 'नरवइ' (सुपा ३६, अजि १७, १६)। ४ श्रेष्ठ, उत्तम, 'घरणिधरवई' (अजि १७)। ५ घर न [गृह] समुदाय (षड्)। ६ वया, उवया जी [व्रता] पति-सेवा-परायण जी, कुलवती स्त्री, सती (गा ४१७, सुर ६, ६७)। ७ हर देखो 'घर' (हे १, ४)।

पइ देखो पडि (ठा २, १, काल, उवर २१)।

पइअ वि [दे] १ भत्सित, तिरस्कृत। २ न पहिया, रथ-चक्र (दि ६, ६४)।

पइइ देखो पगइ = प्रकृति (से २, ४५)।

पइउ देखो पय = पच्।

पइउवचरण न [प्रत्युपचरण] प्रत्युपचार, प्रति-सेवा (रभा)।

पइऊल देखो पडिकूल (नाट—विक्र ४५)।

पइवया देखो पइ-वया (शाया १, १६—पन २०४)।

पइक (अप) देखो पाइक (पिंग)।

पइकिदि देखो पडिकिदि (नाट—शकु ११६)।

पइक देखो पाइक (पिंग, पि १६४)।

पइगिइ देखो पडिकिदि (स ६२५)।

पइच्छन्न पु [प्रतिच्छन्न] शूत-विशेष (राज)।

पइज्ज (अप) वि [पतित] गिरा हुआ (पिंग)।

पइज्ज (अप) वि [प्राप्त] मिला हुआ, लब्ध (पिंग)।

पइज्जा देखो पइज्जा (भवि, सण)।

पइट्ट वि [दे] १ जिसने रस को जाना हो वह। २ रिरल। ३ पुं. मागं, रास्ता (दि ६, ६६)।

पइट्ट देखो पगिट्ट (सट्टि ५ टी)।

पइट्ट वि [दे] प्रेषित, भेजा हुआ, 'जह अद्-कुमर मिच्छो अमयपइट्ट जिणस्स पडिदि' (सवोच ३)।

पइट्ट पु [प्रतिष्ठ] भगवान् सुपाश्चिनाथ के पिता का नाम (सम १५०)।

पइट्ट वि [प्रविष्ट] जिसने प्रवेश किया हो वह (स ४२६)।

पइट्टव सक [प्रतिस्थापय] मूर्ति आदि को विधि-पूर्वक स्थापना करना। पइट्टवेज्जा (पंचा ७, ४३)।

पइट्टवण देखो पइट्टावण (राज)।

पञ्चवलोक्त वि [दे] आसक्त-चित्त, तल्लीन-
मनस्क (दे ६, ३४) ।

पञ्चवभास पु [प्रत्याभास] निगमन,
प्रत्युच्चारण (विसे २६३२) ।

पञ्चभिआण देखो पञ्चभिजाण । पञ्चभि-
आणादि (शौ) (पि १७०, ५१०) ।

पञ्चभिआणिद (शौ) देखो पञ्चभिजाणिअ
(पि ५६५) ।

पञ्चभिजाग सक [प्रत्यभि + ज्ञा] पहि-
चानना, पहिचान लेना । पञ्चभिजाणइ
(महा) । वक्क पञ्चभिजाणमाण (आया
१, १६) । सक पञ्चभिजाणिकण
(महा) ।

पञ्चभिजाणिअ वि [प्रत्यभिज्ञात] पहि-
चाना हुआ (स ३६०) ।

पञ्चभिजाण न [प्रत्यभिज्ञान] पहिचान
(स २१२, नाट—शकु ८४) ।

पञ्चभिजाण देखो पञ्चभिजाणिअ (स
१००, सुर ६, ७६, महा) ।

पञ्चमाण देखो पञ्च = पच् ।

पञ्चय पु [प्रत्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, बोध
(उव, ठा १, विसे २१४०) । २ निर्णय,
निश्चय (विसे २१३२) । ३ हेतु, कारण (ठा
२, ४) । ४ शपथ, विश्वास उत्पन्न करने के
लिए किया या कराया जाता तस माप आदि
का चर्चण वगैरह (विसे २१३१) । ५ ज्ञान
का कारण । ६ ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ
(राज) । ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का
उत्पाक (विसे २१३१, आवम) । ८ विधास,
श्रद्धा । ९ शब्द, आवाज । १० छिद्र, विवर ।
११ आघार, आश्रय । १२ व्याकरण प्रसिद्ध
प्रकृति में लगता शब्द-विशेष (हे २, १३) ।

पञ्चल वि [दे] १ पक्का, समर्थ, पहुँचा
हुआ (दे ६, ६६, सुपा ३४, सुर १, १४,
कुप्र ६६, पात्र) । २ असहन, अमहिष्णु
(दे ६, ६६) ।

पञ्चलित (प्रप) अ [प्रत्युत्] वैपरोत्य,
पञ्चलित (धरुच, धरु हि ४, ४२०) ।

पञ्चणद (शौ) वि [प्रत्ययनत] नमा हुआ,
'एष में बोधि पञ्चवणवसिरोहर उच्छु विप्र
विएण (२) भग कग्दि' (अभि २२४) ।

पञ्चवस्थय वि [प्रत्यवस्तुत] १ विद्याया
हुआ । २ आच्छादित (आवम) ।

पञ्चवस्थाण न [प्रत्यवस्थान] १ शङ्का-
परिहार, समाधान (विसे १००७) । २
प्रतिवचन, खरडन (वृह १) ।

पञ्चवर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी
लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते
हैं (दे ६, १५) ।

पञ्चवाय पु [प्रत्यवाय] १ वाधा, विघ्न,
व्याघात (आया १, ६, महा, स २०६) ।
२ दोष, दूषण (पउम ६५, १२, अञ्चु ७०,
श्रोघ २४) । ३ पाप, 'बहुपञ्चवायमरिओ
गिहवासो' (सुपा १६२) । ४ दुःख, पीडा
(कुप्र ५५२) ।

पञ्चवाय पु [प्रत्यवाय] १ उपघात-हेतु,
नाश का कारण (उत्त १०, ३) । २ अनर्थ
(पचा ७, ३६) ।

पञ्चवेक्खिद (शौ) वि [प्रत्यवेक्षित] वि-
निरीक्षित (नाट—शकु १३०) ।

पञ्चह न [प्रत्यह] हररोज, प्रतिदिन (अभि
६०) ।

पञ्चहिजाण } देखो पञ्चभिजाण । पञ्च-
पञ्चहियाण } हिजाणेदि (पि ५१०) । पञ्च-
हियाणइ (स ४२) । सक पञ्चहियाणिकण
(स ४४०) ।

पञ्चा क्री [दे] तुरण-विशेष, बल्वज (ठा ५, ३) ।
पिञ्चियय न [दे] बल्वज तुरण की कूटी
हुई छाल का बना हुआ रजोहरण—जैन
साधु का एक उपकरण (ठा ५, ३—पउ
३३८) ।

पञ्चा देखो पञ्छा (प्रयौ ३६, नाट—रत्ना ७) ।

पञ्चाअच्छ सक [प्रत्या + गम्] पीछे
लौटना, वापस आना । पञ्चाअच्छइ (पड्) ।

पञ्चाअद (शौ) देखो पञ्चागय (प्रयौ २५) ।

पञ्चाइक्ख देखो पञ्चक्ख = प्रत्या + ख्या ।

पञ्चाइक्खामि (आचा २, १५, ५, १) ।

अवि पञ्चाइक्खिस्सामि (पि ५२६) । वक्क

पञ्चाइम्पमाण (पि ४६२) ।

पञ्चाउट्टणया क्री [प्रत्यावर्त्तनता] अनाय—
सशय रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष, निश्च-
यात्मक मति-ज्ञान (एदि १७६) ।

पञ्चाणस पुन [प्रत्यादेश] दृष्टान्त, निदर्शन,
उदाहरण, 'पञ्चाएतोव्य धम्मनिरयाण' (उ

३५, उव, कुप्र ५०), 'पञ्चाएस विट्ठ' (पात्र) । देखो पञ्चादेस ।

पञ्चागय वि [प्रत्यागत] १ वापस आया
हुआ (गा ६३३, दे १, ३१, महा) । २ न,
प्रत्यागमन (ठा ६—पउ ३६५) ।

पञ्चाचक्ख सक [प्रत्या + चक्ख] परित्याग
करना । हेक्क पञ्चाचक्खिदु (शौ) (पि
४६६, ५७४) ।

पञ्चाणयण न [प्रत्यानयन] वापस ले आना
(मुदा २७०) ।

पञ्चाणि } सक [प्रत्या + णी] वापस ले
पञ्चाणी } आना । क्वक्क पञ्चाणिज्जत (सि
११, १३५) ।

पञ्चाणीद (शौ) वि [प्रत्यानीत] वापस
लाया हुआ (पि ८१, नाट—विक्र १०) ।

पञ्चाथरण न [प्रत्यास्तरण] सामने होकर
लडना (राज) ।

पञ्चाट्टि वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निरुद्ध
(पि १४५, मुच्छ ६) ।

पञ्चादेस पु [प्रत्यादेश] निराकरण (अभि
७२, १७८, नाट—विक्र ३) । देखो पञ्चाएस ।

पञ्चापड अक [प्रत्या + पत्] वापस
आना, लौटकर आ पडना । वक्क 'अगपदि-
हयपुणरविपञ्चापडतचलमिदिक्कवय (शौप) ।

पञ्चामित्त पुन [प्रत्यमित्त] अमित्त, दुग्ध
(आया १, २—पउ ८७, श्रोप) ।

पञ्चाय सक [ति + आयय] १ प्रतीति
कराना । २ विधास कराना । पञ्चायइ (गा
७१२) । पञ्चाएमो (स ३२४) ।

पञ्चाय देखो पञ्चाया ।

पञ्चायण न [प्रत्यायन] ज्ञान कराना, प्रतीति-
जनन (विसे २१३६) ।

पञ्चायण वि [प्रत्यायक] १ निर्णय जनन ।
२ विधास-जनक (विक्र ११३) ।

पञ्चाया अक [प्रत्या + जन्] उत्पन्न होना
जन्म लेना । पञ्चायति (शौप) । अदि,
पञ्चायाहिद (शौप, पि ५२७) ।

पञ्चाया अक [प्रत्या + या] ऊपर धरना ।
पञ्चायति (पि ५२७) ।

पञ्चायाड क्री [प्रत्याजाति, प्रत्यागति]
उपति, जन्म-ग्रहण (ठा ३, ३—पउ १४४) ।

पञ्चायाय वि [प्रत्यायात] उपपन्न (भा) ।

पइसार सक [प्र + वेश्य] प्रवेश करना ।
पइसारद (भवि) ।

पइसारिय वि [प्रवेशित] जिसका प्रवेश
कराया गया हो वह, 'पइसारिमो य नर्या'
(महा, भवि) ।

पइहत पु [दे] जयन्त, इन्द्र का एक पुत्र
(दे ६, १६) ।

पइहा सक [प्रति + हा] व्याग करना ।
सक पइहिऊण (उव) ।

पडे° देखो पडे = पति (पड, हे १, ४, सुर
१, १७६) ।

पईअ वि [प्रतीत] १ विज्ञात । २ विश्वस्त ।
३ प्रसिद्ध, विख्यात (विसे ७०६) ।

पईअ न [प्रतीक] अग, अवयव (रभा) ।

पईइ छो [प्रतीति] १ विश्वास । २ प्रसिद्धि
(राज) ।

पईव देखो पलीव । पईवेद (कस) ।

पईव पु [प्रदीप] दीपक, दिया (पात्र,
जी १) ।

पईव वि [प्रतीप] १ प्रतिकूल (हे १,
२०६) । २ पु, शत्रु, दुश्मन (उप ६४८ टी,
हे १, २३१) ।

पईस (अप) देखो पइस । पईसइ (भवि) ।

पड (अप) वि [पतित] गिरा हुआ (पिंग) ।

पडअ देखो पागाय = प्राकृत (प्राक ५) ।

पडअ पु [टि] दिन, दिवस (दे ६, ५) ।

पडअ न [प्रयुत] सख्या-विशेष, 'प्रयुताङ्ग'
को चौरासी लाल से गुणने पर जो सख्या
लव्य हो वह (इक, ठा २, ४) ।

पडअग न [प्रयुताङ्ग] सख्या-विशेष, 'अयुत'
को चौरासी लाल से गुणने पर जो सरपा
लव्य हो वह (ठा २, ४) ।

पडज मक [प्र + युज्] १ जोडना, युक्त
करना । २ उच्चारण करना । ३ प्रवृत्त
करना । ४ प्रेरणा करना । ५ व्यवहार
करना । ६ करना । पडजइ (महा, भवि, पि
५०७) । पडजति (कप्प) । वकू पडजंत,
पडजमाण (श्रौप, पठम ३५, ३६) । कवकू
पडजमाण (प्रमौ २३) । कू पडजिअवन्,
पडज (परइ २, ३, उव ७२८ टी, विसे
३३८४), पडजव (अप) (कुमा) ।

पडजग वि [प्रयोजक] प्रेरक, प्रेरणा करने-
वाला (पचव १) ।

पडजग वि [प्रयोजन] प्रयोग करनेवाला
(पठम १४, १०) । देखो पओअण ।

पडजणया } छो [प्रयोजना] प्रयोग (श्रोष
पडजणा } ११४); 'दुक्ख कीरइ कव्व'
कव्वम्मि कए पडजणा दुक्ख' (वज्जा २) ।

पडजिअ वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग किया
गया हो वह (सुपा १४०, ४४७) ।

पडजित्तु वि [प्रयोक्त्] प्रवृत्ति करनेवाला
(ठा ५, १) ।

पडजित्तु वि [प्रयोजयित्तु] प्रवृत्ति करनेवाला
(ठा ५, १) ।

पडज्ज } देखो पडज ।
पडज्जमाण }

पडट्ट अ [परिवृत्य] मार कर । °परिहार पु
[परिहार] मर कर फिर उसी शरीर में
उत्पन्न होकर उस शरीर का परिभोग करना,
'एव खलु गोसाला । वणस्सइ-काइयाओ पडट्ट-
परिहार परिहरति' (भग १५—पत्र ६६७) ।

पडट्ट वि [परिवर्त] १ परिवर्त, मर कर
फिर उसी शरीर में उत्पन्न होना । २ परिवर्त-
वाद, 'एस ए गेयमा । गोसालस्स मखलि-
पुत्तस्स पडट्टे' (भग १५—पत्र ६६७) ।

पडट्ट वि [प्रवृष्ट] बरसा हुआ (हे १,
१३१) ।

पडट्ट पु [प्रकोष्ट] हाथ का पट्टा, कलाई और
कैदनी के बीच का भाग (परह १, ४—पत्र
७८, कप्प, कुमा) ।

पडट्ट वि [प्रजुष्ट] १ विशेष सेवित । २ न
अति उच्छिष्ट (वड) ।

पडट्ट वि [प्रद्विष्ट] द्वेष-युक्त, 'तो सो पडट्ट-
चित्तो' (सुपा ४७५) ।

पडठ न [दे] १ गृह, घर । २ पु घर का
परिचम प्रवेश (दे ६, ४) ।

पडण अक [प्रगुणय] तन्दुरुस्त होना,
नीरोग होना, 'अन्नस्स चिगिक्खए पडणइ
अन्नो न लोगम्मि' (घर्मस ११८४) ।

पडण पु [दे] १ ब्रह्म-प्ररोह । २ नियम-
विशेष (दे ६, ६५) ।

पडण वि [प्रगुण] १ पट्ट, निर्दोष, 'कह

सन्नरएविहाण जायइ पर्उअदियाएपि' (सुपा
४७२, महा) । २ तैयार, तय्यार (दस ३) ।

पडणाड पु [प्रपुत्ताट] वृक्ष-विशेष, पमाड
का पेड़, चकवड (दे ५, ५ टि) ।

पडत्त अक [प्र + वृत्] प्रवृत्ति करना । कू,
पडत्तिद्व (शौ) (नाट—शकु ८७) ।

पडत्त वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग किया
गया हो वह (महा, भवि) । २ न प्रयोग
(एया १, १) ।

पडत्त पु [पौत्र] लडके का लडका, पोता
(प्राक १०, श्रु ११७) ।

पडत्त न [प्रतोत्र] प्रतोद, प्राजन, चावुक, पैना
(दसा १०) ।

पडत्त वि [प्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह
(उवा) ।

पडत्ति छो [प्रवृत्ति] १ प्रवर्तन (भग १५) ।
२ समाचार, वृत्तान्त (पात्र, सुर २, ४८,
३, ८४) । ३ कार्य, काज, काम । °वाचय वि
[°व्यापृत] कार्य में लगा हुआ (श्रौप) ।

पडत्ति छो [प्रयुक्ति] बात, हकीकत (उप
पु २२८, राज) ।

पडत्तिद्व देखो पडत्त = प्र + वृत् ।

पडत्तु [प्रयोक्त्] १ प्रयोग-कर्ता । २ प्रेरणा
कर्ता । ३ कर्ता, निर्माता । छो °त्ती (तट्ट
४५) ।

पडत्थ न [दे] १ गृह, घर (दे ६, ६६) ।
२ वि प्रोषित, प्रवास में गया हुआ, 'एहिइ
सोवि पडत्थो अइ अ कुप्पेज्ज सोवि अणुणेज्ज'
(गा १७, ६६७, हेका ३०, पठम १७, ३,
वजा ७६, विवे १३२, उव, दे ६, ६६,
भवि) । °वइया छो [पत्तिका] जिसका
पति देशान्तर गया हो वह छो (श्रोष ४१३,
सुपा ५०८) ।

पडत्थ न [दे] १ गृह, घर (दे ६, ६६) ।
२ वि प्रोषित, प्रवास में गया हुआ, 'एहिइ
सोवि पडत्थो अइ अ कुप्पेज्ज सोवि अणुणेज्ज'
(गा १७, ६६७, हेका ३०, पठम १७, ३,
वजा ७६, विवे १३२, उव, दे ६, ६६,
भवि) । °वइया छो [पत्तिका] जिसका
पति देशान्तर गया हो वह छो (श्रोष ४१३,
सुपा ५०८) ।

पडद्वव देखो पडज ।

पडपय देखो पओपय (भग ११, ११ टी) ।
पडपय देखो पओपय = प्रपौत्रिक (भग
११, ११ टी) ।

पडम न [पद्म] १ सूर्य-विकासी कमल (हे
२, ११३, परह १, ३, कप्प, श्रौप, प्रासू
११३) । २ देव विमान-विशेष (सम ३३,
३५) । ३ सख्या-विशेष, 'पयाग' को चौरासी
लाल से गुणने पर जो सख्या लव्य हो वह

पञ्चबलोक वि [दे] आसक्त-चित्त, तल्लीन-मनस्क (दे ६, ३४)।

पञ्चब्रह्मास पु [प्रत्याभास] निगमन, प्रत्युच्चारण (विसे २६३२)।

पञ्चभिआण देखो पञ्चभिजाण। पञ्चभिआणादि (शौ) (पि १७०, ५१०)।

पञ्चभिआणिद् (शौ) देखो पञ्चभिजाणिअ (पि ५६५)।

पञ्चभिजाण सक [प्रत्यभि + ज्ञा] पहिचानना, पहिचान लेना। पञ्चभिजाणइ (महा)। वक्क पञ्चभिजाणमाण (साया १, १६)। सक पञ्चभिजाणिकण (महा)।

पञ्चभिजाणिअ वि [प्रत्यभिज्ञात] पहिचाना हुआ (स ३६०)।

पञ्चभिजाण न [प्रत्यभिज्ञान] पहिचान (स २१२, नाट—शकु ८४)।

पञ्चभिजाय देखो पञ्चभिजाणिअ (स १००, सुर ६, ७६, महा)।

पञ्चमाण देखो पञ्च = पञ्।

पञ्चय पु [प्रत्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, बोध (उव, ठा १, विसे २१४०)। २ निर्णय, निश्चय (विसे २१३२)। ३ हेतु, कारण (ठा २, ४)। ४ शपथ, विश्वास उत्पन्न करने के लिए किया था कराया जाता तप्त माप आदि का चर्चण वगैरह (विसे २१३१)। ५ ज्ञान का कारण। ६ ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ (राज)। ७ प्रत्यय-जनक, प्रतीति का उत्पाक (विसे २१३१, आवम)। ८ विश्वास, श्रद्धा। ९ शब्द, आवाज। १० छिद्र, विवर। ११ आघार, आश्रय। १२ व्याकरण प्रसिद्ध प्रकृति में लगता शब्द-विशेष (हे २, १३)।

पञ्चल वि [दे] १ पक्का, समर्थ, पहुँचा हुआ (दे ६, ६६, सुपा ३४, सुर १, १४, कुप्र ६६, पात्र)। २ असहन, असहिष्णु (दे ६, ६६)।

पञ्चल्लिउ } (अप) अ [प्रत्युत्त] वैपरोत्य,
पञ्चल्लिउ } वरुच, वरु (हे ४, ४२०)।

पञ्चवणद् (शौ) वि [प्रत्यवन्त] नमा हुआ, 'एस म कोवि पञ्चवणदसिरोहरं उच्छुं विप्र तिएण (?) भग करेदि' (अभि २२४)।

पञ्चवत्थय वि [प्रत्यवस्तुत] १ विद्याया हुआ। २ आच्छादित (प्रावम)।

पञ्चवत्थाण न [प्रत्यवस्थान] १ शङ्का-परिहार, समाधान (विसे १००७)। २ प्रतिवचन, खरडन (बृह १)।

पञ्चवर न [दे] मुसल, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं (दे ६, १५)।

पञ्चवाय पु [प्रत्यवाय] १ वाघा, विघ्न, व्याघात (साया १, ६, महा, स २०६)। २ बोध, दूषण (पउम ६५, १२, अचु ७०, शोध २४)। ३ पाप, 'बहुपञ्चवायभरिओ गिहवासो' (सुपा १६२)। ४ दुःख, पीडा (कुप्र ५५२)।

पञ्चवाय पु [प्रत्यवाय] १ उपघात-हेतु, नाश का कारण (उत्त १०, ३)। २ अनर्थ (पञ्चा ७, ३६)।

पञ्चवेक्खिद् (शौ) वि [प्रत्यवेक्षित] निरीक्षित (नाट—शकु १३०)।

पञ्चह न [प्रत्यह] हररोग, प्रतिदिन (अभि ६०)।

पञ्चहिजाण } देखो पञ्चभिजाण। पञ्च-
पञ्चहियाण } हिजाणेदि (पि ५१०)। पञ्च-
हियाणइ (स ४२)। सक पञ्चहियाणिकण (स ४४०)।

पञ्चा ली [दे] तुरा-विशेष, बल्वज (ठा ५, ३)।
पिच्चियय न [दे] बल्वज तुरा की कूटी हुई छाल का बना हुआ रजोहरण—जैन साधु का एक उपकरण (ठा ५, ३—पत्र ३३८)।

पञ्चा देखो पञ्छा (प्रयौ ३६, नाट—रत्ना ७)।

पञ्चाअच्छ सक [प्रत्या + गम्] पीछे लौटना, वापस आना। पञ्चाअच्छद् (पद्)।

पञ्चाअद् (शौ) देखो पञ्चागय (प्रयौ २५)।

पञ्चाइक्ख देखो पञ्चक्ख = प्रत्या + ख्या।

पञ्चाइक्खामि (आत्ता २, १५, ५, १)।

अभि पञ्चाइक्खिस्तामि (पि ५२६)। वक्क

पञ्चाइक्खमाण (पि ४६२)।

पञ्चाउट्टणया ली [प्रत्यावर्त्तनता] श्रवाय—सशय रहित निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष, निश्चयात्मक मति-ज्ञान (एदि १७६)।

पञ्चाएस पुन [प्रत्यादेश] दृष्टान्त, निदर्शन, उदाहरण, 'पञ्चाएसोव्व घम्मनिरयाण' (स

३५, उव, कुप्र ५०), 'पञ्चाएस विदुत्' (पात्र)। देखो पञ्चादेस।

पञ्चागय वि [प्रत्यागत] १ वापस आया हुआ (गा ६३३, दे १, ३१, महा)। २ न, प्रत्यागमन (ठा ६—पत्र ३६५)।

पञ्चाचक्ख सक [प्रत्या + च्ख] परित्याग करना। हेक्क पञ्चाचक्खिखंडु (शौ) (पि ४६६, ५७४)।

पञ्चाणयण न [प्रत्यानयन] वापस ले आना (सुदा २७०)।

पञ्चाणि } सक [प्रत्या + णी] वापस ले
पञ्चार्णी } आना। क्वक्क पञ्चाणिज्जत सि ११, १२५)।

पञ्चाणीद् (शौ) वि [प्रत्यानीत] वापस लाया हुआ (पि ८१, नाट—विक्र १०)।

पञ्चाथरण न [प्रत्यास्तरण] सामने होकर लडना (राज)।

पञ्चादिट्ट वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निराकृत (पि १४५, मुच्छ ६)।

पञ्चादेस पु [प्रत्यादेश] निराकरण (अभि ७२, १७८, नाट—विक्र ३)। देखो पञ्चाएस।

पञ्चापड अक [प्रत्या + पत्] वापस आना, लौटकर आ पडना। वक्क, 'अगपदि-हपपुणरविपञ्चापडतचचलमिदिक्कवय (श्रौप)।

पञ्चामित्त पुन [प्रत्यमित्त] अमित्त, दुश्मन (साया १, २—पत्र ८७, श्रौप)।

पञ्चाय सक [ति + आयय] १ प्रतीति करना। २ विश्वास करना। पञ्चाइद् (या ७१२)। पञ्चाएयो (स ३२४)।

पञ्चाय^० देखो पञ्चाया।

पञ्चायण न [प्रत्यायन] ज्ञान कराना, प्रतीति जनन (विसे २१३६)।

पञ्चायय वि [प्रत्यायक] १ निर्णय-जनक। २ विश्वास-जनक (विक्र ११३)।

पञ्चाया अक [प्रत्या + जम्] उत्पन्न होना, जन्म लेना। पञ्चायति (श्रौप)। अवि, पञ्चायाहिद् (श्रौप, पि ५२७)।

पञ्चाया अक [प्रत्या + या] ऊपर देखो। पञ्चायति (पि ५२७)।

पञ्चायाइ ली [प्रत्याजाति, प्रत्यायति] उत्पत्ति, जन्म-ग्रहण (ठा ३, ३—पत्र १४४)।

पञ्चायाय वि [प्रत्यायात] उत्पन्न (भग)।

पटरानी (गामा २—पत्र २५३) । ६ चम्पे-
श्वर राजा दविवाहन की एक स्त्री का नाम
(आव ४) । ७ राजा कूरिणक की एक पत्नी
(भग ७, ६) । ८ अयोध्या के राजा हरिसिंह
की एक पत्नी (धम्म ८) । ९ तैतलिपुर के
राजा कनककेतु की पत्नी (दस १) । १०
कौशाम्बी नगरी के राजा शतानीक के पुत्र
उदयन की पत्नी (विपा १, ५) । ११ शैलक-
पुर के राजा शैलक की पत्नी (गामा १, ५) ।
१२ राजा कूरिणक के पुत्र कालकुमार की
भार्या का नाम । १३ राजा महाबल की भार्या
का नाम (निर १, १, ५, पि १३६) । १४
वीसन् तीर्थंकर श्रीमुनिसुव्रतस्वामी की माता
का नाम (पव ११) । १५ पुरडरीकिणी
नगरी के राजा महापद्म की पटरानी (आचू
१) । १६ रम्यनामक विजय की राजधानी
(ज ४) ।

पडमावती (अप) स्त्री [पदसावती] छन्द-
विशेष (पिंग) ।

पडमिणी स्त्री [पडिमिणी] १ कमलिनी,
कमल लता (कप्य, सुपा १५५) । २ एक श्रेष्ठी
की स्त्री का नाम (उप ७१८ टी) ।

पडमुत्तर पु [पदमुत्तर] १ नववे चक्रवर्ती
श्रीमहापचराज के पिता का नाम (सम
१५२) । २ मन्दर पर्वत के भद्रशाल वन का
एक विहस्तो पर्वत (इक) ।

पडमुत्तरा स्त्री [पदमुत्तरा] एक प्रकार की
शकर, खड, चीनी (गामा १, १७—पत्र
पण २२६, १७) ।

पडर वि [प्रचुर] प्रभूत, बहुत (हे १, १८०,
कुमा, सुर ४, ७४) ।

पडर वि [पौर] १ पुर-संस्कृती, नगर से सबन्ध
रखनेवाला । २ नगर में रहनेवाला (हे १,
१६२) ।

पडरव पु [पौरव] पुनामक चन्द्र वशीय
नृप का पुत्र (ससि ६) ।

पडराण (अप) देखो पुराण (भवि) ।

पडरिस वि [पौरुपेय] पुरुष-कृत, पुरुष का
बनाया हुआ वेदन्ध तह यापडरिसमात्र'
(पमसं ८६२) ।

पडरिस पुन [पौरुष] पुरुषत्व, पुरुषार्थ,
पडरुस } वीरता मरदानी (हे १, १११,
१६२), 'पडरुसा' (प्राप्र), 'पडरुस' (ससि
६) ।

पडल सक [पच्] पकाना । पडलइ (हे
४, ६०, दे ६, २६) ।

पडलण न [पचन] पकाना, पाक (पणह १,
१) ।

पडल्लिअ वि [पक्क] पका हुआ (पाम्म) ।

पडल्लिअ वि [प्रज्वलित] दग्ध, जला हुआ
(जवा) ।

पडल्ले देखो पडल । पडल्लइ (षट्, हे ४, ६०
टि) ।

पडल्ले वि [पक्क] पका हुआ (पचा १) ।

पडल्ले न [पचनरु] रसोई का पात्र (दशवै०
वृ० हारि० पत्र ६७, २) ।

पडविय वि [प्रकुपित] विशेष कुपित, क्रुद्ध
(महा) ।

पडस सक [प्र + द्विष्] द्वेष करना । पड-
सेजा (शोष २५ भा) ।

पडसय वि [दे] देश-विशेष मे उत्पन्न । स्त्री,
"सिया (शोष) ।

पडस्स देखो पडस । पडस्ससि (कुप्र ३७७) ।
वक्क पडरसत, पडस्समाण (राज, अत
२२) । सङ्क पडस्सिअण (स ५१३) ।

पडहण (अप) देखो पडहण (भवि) ।

पडुठ न [दे] गृह, घर (दे ६, ४) ।

पए अ [प्रगे] पहले, पूर्व, 'तित्यगरवयण-
करणे आयरिआएणं कय पए होइ' (शोष
४७ भा), 'जइ पुण वियालपत्ता पए व पत्ता
उवस्सयं न जभे' (शोष १६८) ।

पएणियार पु [प्रैणीचार] व्याध की एक
जाति, जो हरिणो को पकडने के लिए
हरिणी-समूह को चराते एव पालते हैं (पणह
१, १—पत्र १४) ।

पएर पु [दे] १ श्रुति-विवर, वाड का छिद्र ।
२ मार्ग, रास्ता । ३ कठदीनार नामक भ्रूण-
विशेष । ४ गले का छिद्र । ५ दीननाद, श्रात्त-
स्वर । ६ वि. कुशील, दुराचारी (दे ६,
६७) ।

पणस पु [दे] प्रातिवेशिक, पडोसी (दे ६,
३) ।

पएस पु [प्रदेश] १ जिसका विभाग न हो
सके ऐसा सूक्ष्म अवयव (ठा १, १) । २
कर्म-बल का सचय (नव ३१) । ३ स्थान,
जगह (कुमा ६, ५६) । ४ देश का एक भाग,
प्रांत (कुमा ६) । ५ परिमाण-विशेष, निरश-
अवयव-परिमित माप । ६ छोटा भाग । ७
परमाणु । ८ द्व्यणुक । ९ त्र्यणुक, तीन
परमाणुओं का समूह (राज) । १० क्रम्म न
[कर्मन्] कर्म-विशेष, प्रदेश-रूप कर्म
(भग) । ११ गग न [गग] कर्मों के दलिको का
परिमाण (भग) । १२ घण वि [घन] निविड
प्रदेश (शोप) । १३ णाम न [नामन्] कर्म-
विशेष (ठा ६) । १४ णाम पु [नाम] कर्म-
ब्रव्यो का परिणाम (ठा ६) । १५ ध पुं
[वन्ध] कर्म-बलो का आत्य-प्रदेशो के साथ
सबन्धन (सम ६) । १६ संक्रम पु [संक्रम] कर्म-
ब्रव्यो को भिन्न स्वभाव वाले कर्मों के रूप
में परिणत करना (ठा ४, २) ।

पएसण न [प्रदेशान्] उपदेश, 'पएसणय
गाम उवएसो' (आचू १) ।

पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदर्शक,
'सिद्धिपहपएसए वदे' (विसे १०२५) ।

पएसि पु [प्रदेशिन्] स्वनाम ख्यात एक
राजा, जो श्री पार्श्वनाथ भगवान् के केशि-
नामक गणेश्वर से प्रबुद्ध हुआ था (राय, कुप्र
१५५, आ ६) ।

पएसिणी स्त्री [दे] पडोस मे रहनेवाली स्त्री,
पडोसिनी (दे ६, ३ टी) ।

पएसिणी स्त्री [प्रदेशिनी] अंगुष्ठ के पास
की उगली, तर्जनी (शोष ३६०) ।

पएसिय देखो पदेसिय (राज) ।

पओअ पु [पयोद्] मेघ (दस ७, ५२) ।

पओअ देखो पओग (हे १, २४५, अमि ६-
सण, पि ८५) ।

पओअण न [प्रयोजन] १ हेतु, निमित्त,
कारण (सूअ १, १२) । २ कार्य, काम ।
३ मतलब (महा, उत २३, स्वप्न ४८) ।

पओइद (शौ) वि [प्रयोजित] जिसका
प्रयोग कराया गया हो वह (नाट—विक्र
१०३) ।

पओग पु [प्रयोग] प्रयोजन (सूअ २, ७, २) ।

पञ्चोणियत्त वि [प्रत्ययनिवृत्त] ऊँचा उल्ल कर नीचे गिरा हुआ (पएह १, ३—पत्र ४५) ।

पञ्चोणिवय अक [प्रत्ययनि + पत्] उल्ल कर नीचे गिरना । वक् पञ्चोणिवयत (श्रौप) ।

पञ्चोणी [दे] देखो पञ्चोणणी (स २३५, ३०२, सुपा ६१, २२४, २७६) ।

पञ्चोयड न [दे] १ तट के समीप का ऊँचा प्रदेश (जीव ३) । २ वि. आच्छादित (राय) ।

पञ्चोयर सक [प्रत्यय + त्] नीचे उतरना । पञ्चोरइ (आचा २, १५, २८) । सक. पञ्चोयरित्ता (आचा २, १५, २८) ।

पञ्चोरुभ } सक [प्रत्यय + रुह] नीचे पञ्चोरुह } उतरना । पञ्चोरुभइ (राया १, १) । पञ्चोरुहइ (कम्प) । सक. पञ्चोरुहिन्ता (कम्प) ।

पञ्चोवणिअ वि [दे] समुल आया हुआ (दे ६, २४) ।

पञ्चोवणी स्त्री [दे] समुल आगमन (दे ६, २४) ।

पञ्चोसक अक [प्रत्यय + ष्वक्] १ नीचे उतरना । २ पीछे हटना । पञ्चोसकइ, पञ्चो-सकति (उवा, पि ३०२, भग) । सक. पञ्चो-सकित्ता (उवा, भग) ।

पञ्छ सक [प्र + अर्थय] प्रार्थना करना । कवक पञ्छज्जमाण (कम्प, श्रौप) ।

पञ्छ वि [पथ्य] १ रोगी का हितकारी आहार (हे २, २१, प्राप्र, कुमा, स ७२४, सुपा ५७६) । २ हितकारक, हितकारी, 'पञ्छा वाया' (राया १, ११—पत्र १७१) ।

पञ्छ न [पश्चात्] १ चरम, शेष (चंद १) । २ पीछे, पृष्ठ भाग । ३ पश्चिम दिशा, 'पुब्बेण सणं पञ्छेण वज्जुला दाहिणेण वडविडमो' (वजा ६६) । 'ओ अ [तस्] पीछे, पीठ की ओर, 'हृत्थी वेणुए पञ्छमो लग्गो' (महा), 'वहइ व महीअलभरिओ णोत्तेइ व पञ्छमो धरेइ व पुरओ' (सि १०, ३०), 'तो चेडयाओ तक्खणमारुवेअए पञ्छमो बहं वड वसड' (सुपा २२१) । 'कम्म न [वमैन्] १ अनन्तर का कर्म,

वाद की क्रिया । २ यतियो की भिक्षा का एक दोष, दातु-कर्त्तुं क दान देने के बाद की पात्र को साफ करने आदि क्रिया (श्रौष ५१६) । 'त्ताअ पु [ताप] अनुताप (वजा १४२) । 'द्व न [अर्थ] पीछला आधा, उत्तरार्ध (गड, महा) । 'वत्थुक्क न [वास्तुक] पिछला घर, घर का पिछला हिस्सा (पएह २, ४—पत्र १३१) । 'याव पु [ताप] पश्चात्ताप, अनुताप (भावम) । देखो पञ्छा = पश्चात् ।

पञ्छइ } (अप) अ [पश्चात्] ऊपर देखो पञ्छए } (हे ४, ४२०, पड, भवि) । ताव पु [ताप] अनुताप, अनुशय (कुमा) ।

पञ्छद सक [गम्] जाना, गमन करना । पञ्छदइ (हे ४, १६२) ।

पञ्छदि वि [गन्तु] गमन करनेवाला (कुमा) । पञ्छभाग पु [पश्चाद्भाग] १ दिवस का पिछला भाग (राज) । २ पुन नक्षत्र-विशेष, चन्द्र पृष्ठ देकर जिसका भोग करता है वह नक्षत्र (ठा ६) ।

पञ्छण स्त्री [प्रतक्षण] त्वक् का बारीक विदारण, चाकू आदि से पतली छाल निकालना, 'तच्छणेहि य पच्छणेहि य' (विपा १, १), 'तच्छणाहि य पच्छणाहि य' (राया १, १३) ।

पञ्छण वि [प्रच्छन्न] गुप्त, अप्रकट, (गा १८३) । 'पइ पु [पति] जार, उपपति, यार (सूअ १, ४, १) ।

पञ्छद देखो पञ्छय (श्रौप) ।

पञ्छदण न [प्रच्छदन] आस्तरण, चादर—शय्या के ऊपर का आच्छादन-बन्न, 'सुप्पच्छद-णाए सग्याए रिहइ ण लभामि' (स्वप्न ६०) । पञ्छन्न देखो पञ्छण (उव, सुर २, १८४) । पञ्छय पु [प्रच्छद] बन्न-विशेष, दुपट्टा, पिछौरी (राया १, १६) ।

पञ्छयण देखो परथयण (***) । पञ्छयण देखो परथयण (मोह ८०) । पञ्छखिउ (अप) देखो पञ्चखिउ (पड) । पञ्छा अ [पश्चात्] १ अनन्तर, बाद, पीछे (सुर २, २४४, पाप्र, प्रासू ५७), 'पञ्छा तस्स विवागे अस्सि क्कुए महादुक्खा' (प्रगू १२६) । २ परलोक, परजन्म, 'पञ्छा

कडुअविवागा' (राज) । ३ पिछला भाग, पृष्ठ । ४ चरम, शेष (हे २, २१) । ५ पश्चिम दिशा (राया १, ११) । 'उत्त वि [आयुक्त] जिसका आयोजन पीछे में किया गया हो वह (कम्प) । 'कड पु [कृत] साधुपन को छोड़कर फिर गृहस्थ बना हुआ (द्र ५०, वृह १) । 'कम्म देखो 'पञ्छ-कम्म (पि ११२) । 'णिवाइ देखो 'निवाइ (राज) । 'णुताव पु [अनुताप] पश्चात्ताप, अनुताप, 'पञ्छाणुतावेण सुभज्जवसाणेण' (भावम) । 'णुपुञ्जी स्त्री [आनुपूर्वी] जलटा ऋष (अणु, कम्म ४, ४३) । 'ताव पु [ताप] अनुताप (भाव ४) । 'ताविय वि [तापिक] पश्चात्तापवाला (पएह २, ३) । 'निवाइ वि [निपातिन्] १ पीछे से गिर जानेवाला । २ चारित्र ग्रहण कर बाद में उससे च्युत होनेवाला (आचा) । 'भाग पु [भाग] पिछला हिस्सा (राया १, १) । 'मुह वि [मुख] परामुख, जिसने मुँह पीछे की तरफ फेर लिया हो वह (था १२) । 'यव, 'याव देखो 'ताव (पवम ६५, ६६, सुर १५, १४५, सुपा १२१, महा) । 'यावि वि [तापिन्] पश्चात्ताप करनेवाला (उप ७२८ टी) । 'वाय पु [वात] पश्चिम दिशा का पवन । २ पीछे का पवन (राया १, ११) । 'सखि स्त्री [दे-सस्सुत्ति] १ पिछला संस्कार । २ मरण के उपलक्ष्य में ज्ञाति—कुटुंबी वगैरह प्रभूत मनुष्यों के लिए पकायी जाती रसोई (आचा २, १, ३, २) । 'सथव पु [सत्तव] १ पिछला सवन्ध, स्त्री, पुत्री वगैरह का सवन्ध । २ जैन मुनियों के लिए भिक्षा का एक दोष, ध्युर आदि पक्ष में अच्छी भिक्षा मिलने की लालच से पहले भिक्षार्थ जाना (ठा ३, ४) । 'सथुय वि [सस्तुत्त] पिछले सवन्ध से परिचित (आचा २, १, ४, ५) । 'हुत्त वि [दे] पीछे की तरफ का, 'थलमत्ययमि पञ्छा-हुत्ताइ पयाइ तीए ददइए' (सुपा २२१) । पञ्छा स्त्री [पथ्या] हरे, हरीतकी (हे २, २१) ।

पञ्छाअ सक [प्र + छदय] १ हटना । २ क्षिपना । वक्. पञ्छायत (सि ६, ४६, ११, ६) । कृ पञ्छाइज्ज (वसु) ।

केवलज्ञान और निर्वाण । २ काम्पिल्यपुर, जहाँ तेरहवें जिन-देव श्रीविमलनाथ के पांचो कल्याणक हुए थे (ती २४) । ३ तप-विशेष (जीत) । 'क्रोटुग वि [°क्रोटुग] १ पांच कोटो से युक्त । २ पु पुष्व (तदु) । 'गव्व न [°गव्व] गाय के थे पांच पदार्थ—दूध, वही, घृत, गोमय और मूत्र, पंचगव्य (कप्पु) । 'गाह न [°गाथ] गाथाछन्द वाले पांच पद्य (कस) । 'गुण वि [°गुण] पांचगुना (ठा ५, ३) । 'चित्त पु [°चित्त] षष्ठ जिन-देव श्रीपद्मप्रभ, जिनके पांचो कल्याणक चित्रा नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १, कप्प) । 'जाम न [°जाम] १ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और त्याग ये पांच महाव्रत । २ वि. जिसमें इन पांच महाव्रतो का निष्पण हो वह (ठा ६) । 'णउइ छी [°नवति] पचानवे, ६५ (काल) । 'णउय वि [°नवत] ६५ वां (काल) । 'तालीस (अप) ज्ञीन [°चत्वारिंशत्] पैतालीस, ४५ (पिंग, पि ४४५) । 'तिल्थी छी [°तीर्थी] पांच तीर्था का समुदाय (धर्म २) । 'तीसइम वि [°त्रिंशत्तम] पैतीसवां, ३५ वां (परण ३५) । 'दस जि व [°दश] पनरह, १५ (कप्प) । 'दसम वि [°दशम] पनरहवां, १५ वां (याया १, १) । 'दसी छी [°दशी] १ पनरहवां, १५ वी (विसे ५७६) । २ प्रणिमा । ३ अमावास्या (सुज १०) । 'दसुत्तरसय वि [°दशोत्तरशत-तम] एक सौ पनरहवां, ११५ वां (पउम ११५, २४) । 'नउइ देखो 'णउइ (पि ४४७), नाणि वि [°ज्ञानिन्] मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल इन पांचो जानो से युक्त, सर्वज्ञ (सम्म ६६) । 'पव्वी छी [°पर्वी] मास की दो अष्टमी, दो चतुर्दशी और शुक्ल पचमी ये पांच तिथियां (रयण २६) । 'पुव्वासाढ पु [°पूर्वापाढ] दसवें जिनदेव श्रीशीतलनाथ, जिनके पांचो कल्याणक पूर्वापाढा नक्षत्र में हुए थे (ठा ५, १) । 'पुस पु [°पुष्य] पनरहवें जिनदेव श्रीधर्मनाथ (ठा ५, १) । 'वाण पु [°वाण] कामदेव (सुर ४, २४६, कुमा) । 'भूय न न [°भूत] पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और

आकाश ये पांच पदार्थ (सूय १, १, १) । 'भूयवाइ वि [°भूतवादिन्] आत्मा आदि पदार्थों को न मान कर केवल पांच भूतो को ही माननेवाला, नास्तिक (सूय १, १, १) । 'महव्वइय वि [°महाव्रतिक] पांच महा व्रतोवाला (सूय २, ७) । महव्वय न [°महाव्रत] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, और परिग्रह का सर्वथा परित्याग (परह २, ५) । 'महाभूय न [°महाभूत] पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांच पदार्थ (विसे) । 'मुट्टिय वि [°मुष्टिक] पांच मुष्टियो का, पांच मुष्टियो से पूर्ण किया जाता (लोच) (याया १, १, कप्प, महा) । 'मुह पुं [°मुख] सिंह, पंचानन (उप १०३१ टी) । 'यसी देखो 'दसी (पउम ६६, १४) । 'रत्त, 'राय पुं [°रात्र] पांच रात (मा ४३, परह २, ५—पत्र १४६) । 'रासिय न [°राशिक] गरिणत-विशेष (ठा ४, ३) । 'रुविय वि [°रूपिक] पांच प्रकार के नएवाला (ठा ४, ४) । 'वस्थुग न [°वस्तुक] आचार्य हरि-भद्रसूरि-रचित ग्रन्थ-विशेष (पचव १, १) । 'वरिस वि [°वर्ष] पांच वर्ष की अवस्था-वाला (सुर २, ७३) । 'विह वि [°विध] पांच प्रकार का (अणु) । 'वीसइम वि [°विंशतितम] पचीसवां (पउम २५, २६) । 'सगह पु [°सग्रह] आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि-कृत एक जैन ग्रन्थ (पच १) । 'संवच्छुरिय वि [°सावत्सरिक] पांच वर्ष परिमाण-वाला, पांच वर्ष की आयुवाला (सम ७५) । 'सट्ट वि [°षट्] पैसठवां, ६५ वां (पउम ६५, ५१) । 'सट्टि छी [°षट्टि] पैसठ, ६५ (कप्प) । 'समिय वि [°समित] पांच समितियो का पालन करनेवाला (सं ८) । 'सर पु [°शर] कामदेव (पाथ, सुर २, ६३, सुपा ६०, रभा) । 'सीस पु [°शीर्ष] देव-विशेष (वीव) । 'सुण्ण न [°शून्य] पांच प्राणिवच-स्थान (सूय १, १, ४) । 'सुत्ताग न [°सूत्रक] आचार्य-श्रीहरिभद्रसूरि-निर्मित एक जैन ग्रन्थ (पसू १) । 'सेल, 'सेल्ला, 'सेलय पुं [°शैल, 'क] लवणोदधि में स्थित और पांच पर्वतो

से विभूषित एक छोटा द्वीप (महा, बृह ४) । 'सोगधिअ वि [°सौगन्धिक] इलायची, लवण, कपूर, ककौल और जातीफल—जायफल इन पांच सुगन्धित वस्तुओ से संस्कृत, 'नन्नत्य पञ्चसोगधिअए तबोलेण, अवसेसमुह-वासविहिं पचकखामि' (उवा) । 'हत्तर वि [°सप्तत] पचहत्तरवां, ७५ वां (पउम ७५, ८६) । 'हत्तरि छी [°सप्तति] १ सख्या विशेष, ७५ । २ जिनकी संख्या पचहत्तर हो वे (पि २६४, कप्प) । 'हत्सुत्तर पुं [°हरतोत्तर] भगवान् महावीर, जिनके पांचो कल्याणक उत्तराफाल्गुनी-नक्षत्र में हुए थे (कप्प) । 'उह पुं [°युध] कामदेव (सण) । 'णउइ छी [°नवति] १ सख्या-विशेष, पचानवे, ६५ । २ जिनकी संख्या पचानवे हो वे (सम ६७, पउम २०, १०३, पि ४४०) । 'णउय वि [°नवत] पचानवां, ६५ वां (पउम ६५, ६६) । 'णण पु [°नन] सिंह, गजेन्द्र (सुपा १७६, भवि) । 'णुव्वइय वि [°णुव्रतिक] हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह का आशिक ध्यागवाला (उवा, औप, याया १, १२) । 'याम देखो 'जाम (बृह ६) । 'स ज्ञीन [°शत्] १ सख्या-विशेष, पचास, ५० । २ जिनकी संख्या पचास हो वे, 'पचास अजियासाहस्तीओ' (सम ७०) । 'सग न [°शक] आचार्य श्रीहरिभद्रसूरि-कृत एक जैन ग्रन्थ (पचा) । 'सीइ छी [°शीति] १ सख्या विशेष, अस्सी और पांच, ८५ । २ जिनकी संख्या पचासी हो वे (सम ६२, पि ४४६) । 'सीइम वि [°शीतितम] पचासीवां, ८५ वां (पउम ८५, ३१, कप्प, पि ४४६) । पचअण्ण देखो पचअण्ण (गउड) । पचग न [°पञ्चाङ्ग] १ दो हाथ, दो जानु और मस्तक ये पांच शरीरावयव । २ वि पूर्वोक्त पांच अंगवाला (प्रणाम आदि), 'पचग करिय ताहे पणियाय' (सुर ४, ६८) । पचगुलि पु [°दि] एररह-बुद्ध, रेंदों का गाछ (दे ६, १७) । पचंगुलि पुं [°पञ्चागुलि] हस्त, हाथ (याया १, १, कप्प) ।

[^०नामन्] अनन्तर उक्त कर्म-विशेष (राज, सम ६७) ।

पञ्जत्त न [पर्याप्त] लगातार चौतीस दिन का उपवास (सबोध ५८) ।

पञ्जत्तर [दे] देखो पञ्जत्तर (षड्—पत्र २१०) ।

पञ्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] १ शक्ति, सामर्थ्य (सूत्र १, १, ४) । २ जीव की वह शक्ति, जिसके द्वारा पुद्गलो को ग्रहण करने तथा उनको आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का काम होता है, जीव की पुद्गलो को ग्रहण करने तथा परिणामाने या पचाने की शक्ति (भग, कम्म १, ४६, नव ४, द ४) । ३ प्राप्ति, पूर्ण प्राप्ति (दे ५, ६२) । ४ वृत्ति, 'पियदसणवणणीवियाण को लहद पञ्जत्ति ?' (उप ७६८ टी) ।

पञ्जत्ति स्त्री [पर्याप्ति] १ पूर्ति, पूर्णता (धर्मवि ३८) । २ अन्त, अवसान (सुख २, ८) ।

पञ्जन्न पु [पर्जन्य] मेघ-विशेष, जिसके एक बार बरसने से भूमि में एक हजार वर्ष तक चिकनाहट रहती है, 'पञ्जु - (?ज) न्ने ए महामहे एगे ण वासेण दस वाससमाई भावेति' (ठा ४, ४—पत्र २७०) ।

पञ्जय पु [दे प्रार्थक] प्रपितामह, पितामह का पिता, परदादा (भग ६, ३, दस ७, सुर १, १७४, २२०) ।

पञ्जय पु [पर्यय] १ श्रुत-ज्ञान का एक भेद, उत्पत्ति के प्रथम समय में सूक्ष्म-निगोद के लम्बि-अपर्याप्त जीव को जो कुश्रुत का अश होता है उससे दूसरे समय में ज्ञान का जितना अश बढ़ता है वह श्रुतज्ञान (कम्म १, ७) । २—देखो पञ्जाय (सम्म १०३, एदि. विसे ४७८, ४८८, ४९०, ४९१) । ३ समास पु [समास] श्रुतज्ञान का एक भेद, अनन्तर उक्त पर्यय श्रुत का समुदाय (कम्म १, ७) ।

पञ्जयण न [पर्ययण] निश्चय, अवधारण (विसे ८३) ।

पञ्जर सक [कथय] कहना, बोलना । पञ्जरद, पञ्जर (हे ४, २, दे ६, २६, कुमा) ।

पञ्जरय पु [अजरक] रत्नप्रभा-नामक नरक-पृथिवी का एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६५) । १ मज्झ पु [मध्य] एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६७ टी) । २ षट् पु [षट्] नरकावास-विशेष (ठा ६) । ३ सिद्ध पु [विशिष्ट] एक नरकावास, नरक-स्थान-विशेष (ठा ६) ।

पञ्जल देखो पजल । पञ्जलेइ (महा) । वक्र, पञ्जलत (कम्प) ।

पञ्जलण वि [प्रज्वलन] जलानेवाला (ठा ४, १) ।

पञ्जलिअ पु [प्रज्वलित] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ८) ।

पञ्जलिय वि [प्रज्वलित] १ जलाया हुआ, दग्ध (महा) । २ खूब चमकनेवाला, देदीप्यमान (गच्छ २) ।

पञ्जलिर वि [प्रज्वलित] १ जलनेवाला । २ खूब चमकनेवाला (सुपा ६३८, सण) ।

पञ्जलीढ वि [प्रयवलीढ] भक्षित (विचार ३२६) ।

पञ्जव पु [पर्यव] १ परिच्छेद, निर्णय (विसे ८३, आवम) । २ देखो पञ्जाय (आचा, भग, विसे २७५२, सम्म ३२) । ३ कसिण न [कृत्स्न] चतुर्दश पूर्व-अथ तक का ज्ञान, श्रुतज्ञान-विशेष (पचमा) । ४ जाय वि [जात] १ भिन्न अवस्था को प्राप्त (पएह २, ५) । २ ज्ञान आदि गुणोवाला (ठा १) । ३ न विषयोपभोग का अनुष्ठान (आचा) । ४ जाय वि [यात] ज्ञान-प्राप्त (ठा १) । ५ द्विय पु [स्थित, स्थिक, स्थिक] नय-विशेष, द्रव्य को छोड़कर केवल पर्यायो को ही मुख्य माननेवाला पक्ष (सम्म ६) । ६ गय, नय पु [नय] वही अनन्तर उक्त अर्थ (राज, विसे ७५), उज्ज्वलित वयति अ भावा नियमेण पञ्जवनयस्स' (सम्म ११) ।

पञ्जवण न [पर्यवन] परिच्छेद, निश्चय (विसे ८३) ।

पञ्जवत्याव सक [पर्यव + स्थापय] १ अच्छी अवस्था में रखना । २ विरोध करना । ३ प्रतिपक्ष-के साथ वाद करना । पञ्जवत्यावेदु

(श्री), (मा ३६) । पञ्जवत्यावेहि (पि ५५१) ।

पञ्जवसाण न [पर्यवसान] अन्त, अवसान (भग) ।

पञ्जवसिअ न [पर्यवसित] अवसान, अन्त, 'अपञ्जवसिए लोए' (आचा) ।

पञ्जा देखो पण्णा (हे २, ८३) ।

पञ्जा स्त्री [पद्या] मार्ग, रास्ता, 'मिअ व पडुच समा भावाए पन्नवणपञ्जा' (सम्म १५७, दे ६, १, कुप्र १७६) ।

पञ्जा स्त्री [दे] नि श्रेयि, सीढी (दे ६, १) ।

पञ्जा स्त्री [पर्याय] अधिकार, प्रबन्ध भेद (दे ६, १, पात्र) ।

पञ्जा देखो पया, 'अगणिज्जति नासे विज्जा दडिज्जती नासे पञ्जा' प्रासु ६६) ।

पञ्जाअर पु [प्रजागर] जागरण, निद्रा का अभाव (अभि ६६) ।

पञ्जाउल वि [पर्याकुल] विशेष आकुल, व्याकुल (स ७२, ६७३, हे ४, २६६) ।

पञ्जाभाय सक [पर्या + भाजय] भाग करना । सक्र, पञ्जाभाइत्ता (राज) ।

पञ्जाय पु [पर्याय] १ समान अर्थ का वाचक शब्द (विसे २५) । २ पूर्ण प्राप्ति (विसे ८३) । ३ पदार्थ-वर्म, वस्तु-गुण । ४ पदार्थ का सूक्ष्म या स्थूल रूपान्तर (विसे ३२१, ४७६, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ठा १, १०) । ५ क्रम, परिपाटी (एयाया १, १) । ६ प्रकार, भेद (आवम) । ७ अवसर । ८ निर्माण (हे २, २४) । देखो पञ्जाय तथा पञ्जव ।

पञ्जाय पु [पर्याय] तात्पर्य, भावार्थ, रहस्य (सूत्रनि १३६) ।

पञ्जाल सक [प्र + ज्वाल्य] जलाना, सुलगाना । पञ्जालइ (भवि) । सक्र पञ्जालिअ, पञ्जालिऊण (दस ५, १, महा) ।

पञ्जालण न [प्रज्वालन] सुलगाना (उप ५६७ टी) ।

पञ्जालिअ वि [प्रज्वालित] जलाया हुआ, सुलगायवा हुआ (सुपा १५१, प्रासु १८) ।

पञ्जिआ स्त्री [दे प्रार्थिका] १ माता की मातामही, परनाती । २ पिता की मातामही, परदादी (दस ७, हे ३, ४१) ।

पडव पु [पाण्डव] राजा पाण्डु का पुत्र—
युधिष्ठिर, २ भीम, ३ अर्जुन, ४ सहदेव और
५ नकुल (शाया १, १६, उप ६४८ टी) ।

पडव पु [दे] अश्व-रक्षक (?), 'सिद्धि सुहर्देहि
तासियपडववयणेहि नरवरो रुढो' (सम्मत
२१६) ।

पडविअ वि [दे] जलाद्र, पानी से भीजा
हुआ (दे ६, २०) ।

पडिअ वि [पाण्डित] १ विद्वान्, शास्त्री के
मर्म की जाननेवाला, बुद्धिमान्, तत्त्वज्ञ,
'कामञ्जया रागम गणिया होत्या वावत्तरी-
कलापडिया' (विपा १, २, प्रासू ७४,
१२६) । २ सयत्, साधु (सुअ १, ८, ६) ।
३ मरण न [मरण] साधु का मरण, शुभ
मरण-विशेष (भग, पच ४६) । ४ माण वि
[ममन्य] विद्याभिमानी, निज को परिदत्त
माननेवाला, दुर्विद्वध, अधपका, मूर्ख, अनाडी
(शोध २७ भा) । ५ माण वि [मानिन्]
देखो पूर्वोक्त अर्थ (पउम १०५, २१, उप
१३४ टी) । ६ वीरिअ न [वीर्ये] सयत् का
आत्म-बल (भग) ।

पडिअमाण वि [पाण्डित्यमानिन्] पडिताई
का अभिमान रखनेवाला, विद्वत्ता का धर्मद
रखनेवाला (चेइय १६) ।

पडिअ न [पाण्डित्य] परिदत्ताई,
पडित्त } विद्वत्ता, वेदुष्य (उव, सुर १२,
६८, सुपा २६, रभा, सं ५७) ।

पडी देखो पड = पाण्डव ।

पडीअ (अप) देखो पडिअ (पिग) ।

पडु पु [पाण्डु] १ नृप-विशेष, पाण्डवो का
पिता (उप ६४८ टी, सुपा २७०) । २ रोग-
विशेष, पाण्डु रोग (ज १) । ३ वर्ण-विशेष,
शुभल और पीत वर्ण । ४ श्वेत वर्ण । ५
नि शुभ और पीतवर्णवाला (कप्य, गडड) ।
६ सपेद, ज्येत्, मेघ सिधं बलस्व अश्वदाय
पट्ट धनन च' (पाम, गडड) । ७ शिला-
विशेष, पाण्डुरगन्ना नामक गिला (ज ४,
६८) । कंवलसिग्र वी [कम्बलगिला]
के पदंत के पाण्डक वन के दक्षिण छोर पर
न्द्यन एक गिला, जिस पर जिन-देवों का
जन्मान्तिक बिया जाता है (ज ४) ।

कवला वी [कम्बला] वही पूर्वोक्त अर्थ
(ठा २, ३) । १ तणय पु [तनय] पाण्डु-
राज का पुत्र, पाण्डव (गडड ४८५) । २ भद्र
पु [भद्र] एक जैन मुनि, जो आर्य समूति-
विजय के शिष्य थे (कप्य) । ३ मट्टिया,
मत्तिया वी [मूत्तिका] एक प्रकार की
सफेद मिट्टी (जीव १, परण १—पत्र २५) ।
४ महुरा वी [मथुरा] स्वनाम-ख्यात एक
नगरी, पाण्डवों द्वारा बनाई हुई भारतवर्ष के
दक्षिण तरफ की एक नगरी का नाम (शाया
१, १६—पत्र २२५, अत) । ५ राय पु
[राज] राजा पाण्डु, पाण्डवों का पिता
(शाया १, १६) । ६ सुय पु [सुत]
पाण्डव (उप ६४८ टी) । ७ सेण पु [सेन]
पाण्डवों का द्रौपदी से उत्पन्न एक पुत्र
(शाया १, १६, उप ६४८ टी) ।

पडुइय वि [पाण्डुकि] १ श्वेत रग का
किया हुआ (शाया १, १—पत्र २८) ।

पडुग } पु [पाण्डक] १ चक्रवर्ती का धान्यो
पडुय } की पूति करनेवाला एक निधि (राज,
ठा २, १—पत्र ४४, उप ६८६ टी) । २
सर्प की एक जाति (आचू १) । ३ न मेघ
पर्वत पर स्थित एक वन, पाण्डक वन (सम
६६) ।

पडुर पु [पाण्डुर] १ श्वेत वर्ण, सफेद रग ।
२ पीत-मिश्रित श्वेत वर्ण । ३ वि सफेद वर्ण-
वाला । ४ श्वेत मिश्रित पीत वर्णवाला
(कप्य, उव, से८, ४६) । ५ जा वी [या]
एक जैन साध्वी का नाम (भावम) । ६ स्थिय
[स्थिक] एक गाव का नाम (आचू १) ।

पडुरग पु [पाण्डुराङ्ग] सन्यासी की एक
जाति, भस्म लगानेवाला सन्यासी (अणु
२४) ।

पडुरग पु [पाण्डुरक] १ शिव-भक्त
पडुरय } सन्यासियों की एक जाति (शाया
१, १५—पत्र १६३) । २ देखो पडुर,
'कैसा पडुर्या हवति ते' (उत्त ३) ।

पडुरिअ } वि [पाण्डुरित] पाण्डुर वर्ण-
पडुइय } वाला बना हुआ (गा ३८८, विपा
१, २—पत्र २७) ।

पत वि [प्रान्त] १ अन्तवर्ती, अन्तिम (भग
६, ३३) । २ अशोभन, असुन्दर (आचा,

शोध १७ भा) । ३ इन्द्रियों के अनुकूल,
इन्द्रिय प्रतिकूल (परह २, ५) । ४ अशुभ,
असभ्य, अशुष्ट (शोध ३६ टी) । ५ अपसद,
नीच, दुष्ट (शाया १, ८) । ६ दरिद्र, निर्धन
(शोध ६१) । ७ जीर्ण, फटा-टूटा, पत-
वत्थ—' (बृह २) । ८ व्यापन्न, विनष्ट,
'शुष्कावचरणगमाई अत, पतं च होइ वावन्न'
(बृह १, आचा) । ९ नीरस, सूखा (उत्त ८) ।
१० भुक्तावशिष्ट, खा लेने पर बचा हुआ । ११
पर्युपित, वासी (शाया १, ५—पत्र १११) ।
१२ कुल न [कुल] नीच कुल, जघन्य जाति ।
(ठा ८) । १३ चर वि [चर] नीरस आहार
की खोज करनेवाला तपस्वी (परह २, १) ।
१४ जीवि वि [जीविन्] नीरस आहार से
शरीर-निर्वाह करनेवाला (ठा ५, १) । १५ हार
वि [हार] रुखा-सूखा आहार करनेवाला
(ठा ५, १) ।

पताव सक [दे] ताडन करना, मारना ।
पतावे (पिड ३२५) ।

पंति वी [पङ्क्ति] १ पक्ति, श्रेणी, कतार (हे
१, २५, कुमा, कप्य) । २ सेना-विशेष, जिसमें
एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पांच
पदाती हो ऐसी सेना (पउम ५६, ४) ।

पंति वी [दे] वेणी, केश-रचना (दे ६, २) ।
पतिय वीन [पङ्क्ति] पक्ति, श्रेणी, 'सरणि
वा सरपतियाणि वा सरसरपतियाणि वा'
(आचा २, ३, ३, २) । वी 'पतियाओ'
(अणु) ।

पथ पु [पन्थ, पथिन्] मार्ग, रास्ता, 'पथं
किर देमिता' (हे १, ८८), 'पथन्मि पह-
परिबन्ध' (सुपा ५५०, हेका ५४, प्रासू
१७३) ।

पंथ पु [पान्थ] पथिक, मुसाफिर (हे १, ३०,
अचू ७४) । १ कुट्टण न [कुट्टन] मार-
पीटकर मुसाफिरो को लूटना (शाया १,
१८) । २ कोट्ट पु [कुट्ट] वही अर्थ (विपा
१, १—पत्र ११) । ३ कोट्टि वी [कुट्टि]
वही अर्थ, 'से चोरसेणावई गामवायं वा जाव
पंथकोट्टि वा काउ वचति' (शाया १, १८) ।
पथग पु [पान्थक] एक जैन मुनि (शाया
१, ५, धम्म ६ टी) ।

पट्टा, चकनामा, किसी प्रकार का अधिकार-
पत्र (कुप्र ११, जं ३) । ६ रेशम । ७ पाट,
सन (गा ५२०, कपू) । ८ रेशमी कपडा ।
९ सन का कपडा (कपू, औप) । १०
सिंहासन, गद्दी, पाट (कुप्र २८, सुपा २८५) ।
१२ कलावत्तू (राज) । १३ पट्टी, फोडा
आदि पर बाँधा जाता लम्बा वल्लाश,
पाटा, 'चउरगुलपमाणपट्टववेण सिरिवच्छालं-
कियं छाड्यं वचद्वत्थल' (महा, विपा १, १) ।
१३ शक-विशेष (सुज्ज २०) । 'इल्ल पुं
[°वन्] पटेल, गाँव का मुखिया (ज ३) ।
'उडी लो [°कुटी] तवू, वल्ल-गृह (सुर १३,
१५७) । 'करि पु [°करिन्] प्रधान हल्ली
(सुपा ३७३) । 'कार पु [°कार] तन्नुवाय,
वल्ल बुनेवाला, जुलाहा (परए १) । 'वासिआ
लो [°वासिता] एक शिरो-भूषण (दे ४,
४३) । 'साला लो [°शाला] उपाध्य, जैन
मुनि के रहने का स्थान (सुपा २८५) । 'सुत्त
न [°सूत्त] रेशमी सूता (भावम) । 'हत्थि
पुं [°हस्तिन्] प्रधान हाथी (सुपा ३७२) ।
पट्टइल } पु [दे] पटेल, गाँव का मुखिया
पट्टइल } (सुपा २७३, ३६१) ।
पट्टंसुअ न [पट्टासुक] १ रेशमी वल्ल । २
सन का वल्ल (गा ५२०, कपू) ।
पट्टग देखो पट्ट (कस) ।
पट्टण न [पत्तन] नगर, शहर (मग, औप,
प्राप्र, कुमा) ।
पट्टदेवी लो [पट्टदेवी] पटरानी (सिरि
१२१२) ।
पट्टय देखो पट्ट (उवा, एया १, १६) ।
पट्टसुत्त न [पट्टसूत्त] रेशमी वल्ल (धर्मावि
७२) ।
पट्टाढा लो [दे] पट्टा, घोड़े की पेटो, कसन,
'छोडिया पट्टाढा, असारिय पल्लाण' (महा,
सुख १८, ३७) ।
पट्टिय वि [पट्टिक] पट्टे पर दिया जाता
गाँव वगैरह, 'पुत्तिं पट्टियगामम्मि तुट्टदब्बत्थ
पट्टइलो नरवालो पुत्ति जो आसि शुत्तीए
खित्तो' (सुपा २७३) ।
पट्टिया लो [पट्टिका] १ छोटा तख्ता, पाटो,
'चित्तपट्टिया' (सुर १, ८८) । २ देखो
पट्टी, 'सरासणपट्टिआ' (राज—जं ३) ।

पट्टिस पु [दे पट्टिशा] प्रहरण-विशेष, एक
प्रकार का हथियार (परह १, १, पउम ८,
४५) ।
पट्टी लो [पट्टी] १ धनुर्मेष्टि । २ हस्तपट्टिका,
हाथ पर की पट्टी, 'उप्पीडियसरासणपट्टिए'
(विपा १, १—पत्र २४) ।
पट्टुआ पुन देखो पट्टुया, 'पट्टुएहि'
(सुख ६, १) ।
पट्टुया लो [दे] पाद-प्रहार, लात, पुजराती
से 'पाट्ट', सिरिवच्छो गोणेण तहाहभो
पट्टुयाए हियम्मि' (सुपा २३७) । देखो
पड्डुआ ।
पट्टुहिअ न [दे] कलुषित जल, गदा जल,
'पट्टुहियं जाण कलुसजल' (पाम्म) ।
पट्टु वि [प्रष्ट] १ अग्रगामी, अग्रसर, अग्रुआ
(एया १, १—पत्र १६) । २ कुराल, निपुण ।
३ प्रधान, मुखिया (औप, राज) ।
पट्टु वि [स्पृष्ट] जिसका स्पर्श किया गया हो
वह (औप) ।
पट्टु न [पृष्ट] १ पीठ, शरीर के पीछे का
भाग (एया १, ६, कुमा) । २ तल, ऊपर
का भाग, 'तलिम पट्टु च तल' (पाम्म) ।
'चर वि [°चर] अनुयायी, अनुगामी (कुमा) ।
पट्टु वि [पृष्ट] १ जिसको पूछा गया हो
वह । २ न प्रश्न, सवाल, 'खन्निहे पट्टुं
परएत्ते' (ठा ६—पत्र ३७५) ।
पट्टव सक [प्र+स्थापय्] १ प्रस्थान
कराना, भेजना । २ प्रवृत्ति कराना । ३
प्रारम्भ करना । ४ प्रकर्ष से स्थापना करना ।
५ प्रायश्चित्त देना । पट्टवइ (हे ४, ३७) ।
भूका पट्टवइसु (कपू) । कू पट्टवियच्च
(कस, सुपा ६२७) ।
पट्टवग देखो पट्टवय (कम्म ६, ६६ टी) ।
पट्टवण न [प्रस्थापन] १ प्रकृष्ट स्थापन ।
२ प्रारम्भ, 'इम पुण पट्टवण पट्टुच' (अणु) ।
पट्टवणा लो [प्रस्थापना] १ प्रकृष्ट स्थापना ।
२ प्रायश्चित्तप्रदान, 'डुविहा पट्टवणा खलु'
(वव १) ।
पट्टवय वि [प्रस्थापक] १ प्रवर्तक, प्रवृत्ति
करानेवाला (एया १, १—पत्र ६३) । २
प्रारम्भ करनेवाला (विते ६२७) ।

पट्टुविअ वि [प्रस्थापित] भेजा हुआ (पाम्म,
कुमा) । २ प्रवर्तित (निचू २०) । ३ स्थिर
किया हुआ (मग १२, ४) । ४ प्रकर्ष से
स्थापित, व्यवस्थापित (परए २१) ।
पट्टुविइया } लो [प्रस्थापिता] प्रायश्चित्त-
पट्टुविआ } विशेष, अनेक प्रायश्चित्तों से
जिसका पहले प्रारम्भ किया जाय वह (ठा
५, २, निचू २०) ।
पट्टाअ देखो पट्टाव । वल्ल पट्टाएत (गा
४४०) ।
पट्टाण न [प्रस्थान] प्रयाण (सुपा १५२) ।
पट्टाव देखो पट्टव । पट्टावइ (हे ४, ३७) ।
पट्टावइ (मि ५५३) ।
पट्टाविअ देखो पट्टुविअ (हे ४, १६, कुमा,
मि ३०६) ।
पट्टि लो देखो पट्ट = पृष्ठ (गउड, सण) । 'मस
न [°मास] पीठ का मास (परह १, २) ।
पट्टिअ वि [प्रस्थित] जिसने प्रस्थान किया
हो वह, प्रयात (दे ४, १६, औव ८१ ना,
सुपा ७८) ।
पट्टिअ वि [दे] शलकून, विभूषित (पट्ट) ।
पट्टिअकाम वि [प्रस्थालुकाम] प्रयाण का
इच्छुक (आ १४) ।
पट्टिसग न [दे] ककुब, बैल के कवे पर
का कूबड, डिल्ला (दे ६, २३) ।
पट्टी देखो पट्टि (महा, काल) ।
पट्टीवस पु [पृष्टवश] घर के मूल दो खभों
पर तिरछा रखा जाता बड़ा लम्बा (पव
१३३) ।
पठ देखो पठ । पठदि (शौ) (नाट—पृच्छ
१४०) । पठति (पिग) । कर्म पठाविअइ
(मि ३०६, ५५१) ।
पठग देखो पाठग (कपू) ।
पठ अक [पत्] पठना, गिरना । पठइ
(उव, मि २१८, २४४) । वल्ल पठत,
पठमाण (गा २६४, महा, भवि, वृह ६) ।
सकू, पडिअ (नाट—शकु ६७) । कू,
पठणीअ (काल) ।
पड पु [पट] वल्ल, कपडा (औप, उव, स्वण
८५, स ३२६, गा १८) । 'कार देखो 'गार
(राज) । 'कुंठी लो [°कुटी] तवू, वल्ल-गृह
(दे ६, ६, ती ३) । 'गार पुं [°कार]

पकास देखो पयास = प्रकारा (पिण) ।
 पकिट्ट देखो पगिट्ट (राज) ।
 पकिण्ण वि [प्रकीर्ण] १ उप्त, बोया हुआ ।
 २ दत्त, दिया हुआ, 'नहिं पकिण्णा (आ) विव्हति पुएणा' (उत्त १२, १३) । देखो पइण्ण = प्रकीर्ण ।
 पकित्तिअ वि [प्रकीर्त्तित] वणित, कथित (श्रु १०८) ।
 पकिदि देखो पगइ = प्रकृति (प्राक् १२) ।
 पकिदि (शौ) देखो पइइ = प्रकृति (स्वप्न ६०, अग्नि ६५) ।
 पकिन्न देखा पकिण्ण (उत्त १२, १३) ।
 पकिरण न [प्रकिरण] देने के लिए फेंकना (वव १) ।
 पकुण्ण देखो पकर = प्र + कृ । पकुण्णइ (कम्म १, ६०) ।
 पकुप्प अक [प्र + कुप्] क्रोध करना, गुस्सा करना । पकुप्पति (महानि ४) ।
 पकुप्पित्त (बुधै) वि [प्रकुपित्त] क्रुद्ध, कुपित्त, गुस्साया हुआ (हे ४, ३२६) ।
 पकुविअ ऊपर देखो (महानि ४) ।
 पकुच्च सक [प्र + कृ, प्र + कुर्व] १ करने का प्रारम्भ करना । २ प्रकर्ष से करना । ३ करना । पकुच्चइ (पि ५०८) । वक्क पकुच्चमाण (सुर १६, २४, पि ५०८) ।
 पकुत्थि वि [प्रकारिन्, प्रकुत्थिन्] १ करनेवाला, कर्ता । २ पु प्रायश्चित्त देकर शुद्धि कराने में समर्थ हुए (इ ४६, ठा ८, पुष्प ३७६) ।
 पकुविअ वि [प्रकृजित] ऊँचे स्वर से चिल्लाया हुआ (उप ४ ३३२) ।
 पओट्ट देखो पओट्ट (राज) ।
 पओय पु [प्रओय] गुस्सा, क्रोध (आ १४) ।
 पक वि [पक] पका हुआ (हे १, ४७, २, ७६, पात्र) ।
 पक वि [के] १ तृप्त, गवित । २ समर्थ, पया, पहुंचा हुआ (दे ६, ६४, पात्र) ।
 पकत्त नि [प्रकान्त] प्रस्तुत, प्रकृत (कुमा २७) ।
 पकग्गाह पु [द] १ मकर, नगरमच्छ (दे ६, २३) । २ पानी में बसनेवाला मिहाकार जल-जन्तु (ने ५, ५७) ।

पकण वि [दे] १ असहन, असहिष्णु । २ समर्थ, शक्त (दे ६, ६६) । ३ पुं चाण्डाल (स ६३) । ४ एक अनार्य देश । ५ पुं स्त्री. अनार्य देश-विशेष में रहनेवाली एक मनुष्य-जाति (श्रौप, राज) । स्त्री °णी (गाया १, १, श्रौप, इक) । ६ पु एक नीच जाति का घर, शबर-गृह (परा ५२) । °उल्ल न [°कुल] १ चाण्डाल का घर (बृह ३) । २ एक गहित कुल, 'पक्कणउले वसतो सउयी इयरोवि गराहओ होइ' (आव ३) ।

पकणि वि [दे] १ अतिशय शोभमान, खूब शोभता हुआ । २ भग्न, भांगा हुआ । ३ प्रिववद, प्रियभाषी (दे ६, ६५) ।

पकणिय पुत्री [दे] एक, अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४, इक) ।

पकन्न न [पकान्न] केवल घी में बनी हुई वस्तु, मिठाई आदि (सुपा ३८७) ।

पकम सक [प्र + क्रम्] प्रकर्ष से समर्थ होना । पकमइ (भग १५—पत्र ६७८) ।

पकम सक [प्र + क्रम्] १ प्रकर्ष से जाना, चला जाना, गमन करना । २ अक प्रयत्न होना । प्रवृत्ति होना । पकमई (उत्त ३, १३) । पकमत (उत्त २७, १४, वस ३, १३), 'अणुसामणमेव पक्कमे' (सूअ १, २, १, ११) ।

पकम पु [प्रक्रम] प्रस्ताव, प्रसंग (सुपा ३७४) ।

पकमणी स्त्री [प्रक्रमणी] विद्या-विशेष (सूअ २, २, २७) ।

पकल वि [दे] १ समर्थ, शक्त (हे २, १७४, पात्र, सुर ११, १०४, वज्जा ३४) । १ दर्प-युक्त, गवित (सुर ११, १०४, गा ११८) । ३ प्रौढ, 'वत्तारि पक्कलवइल्ला' (गा ८१२, पि ४३६) ।

पकास देखो वकस (आचा) ।

पकसावअ पु [दे] १ शरम । २ व्याघ्र (दे ६, ७५) ।

पकाइय वि [पकीकृत] पकाया हुआ, 'पक्काइयमाउल्लिगसारिच्छा' (वज्जा ६२) ।

पकिर सक [प्र + कृ] फेंकना । वक्क. 'छारं च घृल्लि च कयवरं च उवरं पकिर-माण' (गाया १ २) ।

पकीलिय वि [प्रकीलित] जिसने क्रीडा का प्रारम्भ किया हो वह (गाया १, १, कप्प) ।

पकैल्य वि [पक] पका हुआ (उवा) ।

पक्ख पुं [पक्ष] वेदिका का एक भाग (राय ८२) ।

पक्ख पुं [पक्ष] १ पाख, पखवारा, आघा महीना, पन्द्रह दिन-रात (ठा २, ४—पत्र ८६, कुमा) । २ शुक्ल और कृष्ण पक्ष, उजैला और अंधेरा पाख (जीव २, हे २ १०६) । ३ पार्व, पंजर, कन्धा के नीचे का भाग । ४ पक्षियों का अवयव-विशेष, पाख, पर, पत्र (कुमा) । ५ तर्कशास्त्र-प्रसिद्ध अनुमान-प्रमाण का एक अवयव, साध्यवाली वस्तु (विसे २८२४) । ६ तरफ, ओर । ७ जत्या, दल, टोली । ८ मित्र, सखा । ९ शरीर का आघा भाग । १० तरफदार । ११ तीर का पख (हे २, १४७) । १२ तरफदारी (वव १) । °ग वि [°ग] पक्ष-गामी, पक्ष पर्यन्त स्थायी (कम्म १, १८) । °पिंड पुं [°पिण्ड] आसन-विशेष—१ जानु और जाँघ पर बन्न बाँध कर बैठना । २ दोनो हाथों से शरीर का बन्धन कर बैठना (उत्त १, १६) । °य पु [°क] पखा; ताल-वृत्त (कप्प) । °वत्त वि [°वत्त] तरफ-दारीवाला (वव १) । °वाइल्ल वि [°पातिन्] पक्षपात करनेवाला, तरफदारी करनेवाला (उप ७२८ टी, कम्म १ टी) । °वाद पुं [°पात] तरफदारी (उप ६७०, स्वन्न ४५) । °वादि (शौ) देखो वाडल्ल (नाट—विक्र २, मालती ६५) । °वाय देखो °वाद (सुपा २०६, २६३) । °वाय पु [°वाद] पक्ष-सम्बन्धी विवाद (उप ४ ३१२) । °वाह पुं [°वाह] वेदिका का एक देश-विशेष (ज १) । °वडिअ वि [°पतित] पक्ष-पाती (हे ४, ४०१) । °वाइया स्त्री [°वापिका] होम-विशेष (स ७५७) ।
 पक्खत न [पक्षान्त] अन्यतर इन्द्रिय-जात, 'अन्नयर इदियजायं पक्खतं भएणइ' (निबू ६) ।

पडिअग्ग सक [प्रति + जागृ] १ सम्हालना ।
 २ सेवा करना, भक्ति करना । ३ शुश्रूषा
 करना, 'वच्छ । पडियगेहि मणिमोत्तियाइय
 सारदव्व' (स २८८), पडियगह (स ५४८) ।
 पडिअग्गिअ वि [दे] १ परिशुक्त, जिसका
 परिभोग किया गया हो वह । २ जिसको
 बधाई दी गई हो वह । ३ पालित, रक्षित
 (दे ६, ७४) ।
 पडिअग्गिअ वि [अनुव्रजित] अनुसृत
 (दे ६, ७४) ।
 पडिअग्गिअ वि [प्रतिजागृत] भक्ति से
 आहत (स २१) ।
 पडिअग्गार वि [अनुव्रजिन्] अनुसरण
 करने की आदत वाला (कुमा) ।
 पडिअज्जअ पु [दे] उपाध्याय, विद्या-दाता
 गुरु (दे ६, ३१) ।
 पडिअट्टिअ वि [दे] घृष्ट, घिसा हुआ
 (से ६, ३१) ।
 पडिअत्त देखो परि + वत्त = परि + वृत् ।
 सक, पडिअत्तिअ (नाट) ।
 पडिअत्तण न [परिवर्त्तन] फेरफार,
 हेरफेर (से ५, ६६) ।
 पडिअमित्त पु [प्रत्यभिन्न] मित्र-शत्रु, मित्र
 होकर पीछे से जो शत्रु हुआ हो वह (राज) ।
 पडिअम्मिय वि [प्रतिकर्मित] मरिउत्त,
 विभूषित (दे ६, ३५) ।
 पडिअर सक [प्रति + चर] १ बीमार
 की सेवा करना । २ आदर करना । ३
 निरीक्षण करना । ४ परिहार करना । संछ
 पडियरिअण (निवृ १) ।
 पडिअर सक [प्रति + कृ] १ बदला चुकाना ।
 २ इलाज करना । ३ स्वीकार करना । हेइ,
 पडिकाउ (गा ३२०) । सक 'वहति
 पडिकाऊण ठाविओ एसो' (कुप्र ४०) ।
 पडिअर पु [दे] झुल्लो-भूल, झुल्ले का मूल
 भाग (दे ६, १७) ।
 पडिअर पु [परिकर] परिवार, 'पडियरि
 (? र) ल्यो पुरिसो व्व नियत्तो तेहि चैव
 पएहि नलो' (कुप्र ५७) ।
 पडिअरग वि [प्रतिचारक] सेवा-शुश्रूषा
 करनेवाला (निवृ १, वव १) ।

पडिअरण न [प्रतिचरण] सेवा, शुश्रूषा
 (शोध ३६ भा, आ १, सुपा २६) ।
 पडिअरणा स्त्री [प्रतिचरणा] १ बीमार की
 सेवा-शुश्रूषा (शोध ८३) । २ भक्ति, आदर,
 सत्कार (उप १३६ टी) । ३ आलोचना,
 निरीक्षण (शोध ८३) । ४ प्रतिक्रमण, पाप-
 कर्म से निवृत्ति । ५ सद्-कार्य में प्रवृत्ति
 (भाव ४) ।
 पडिअलि वि [दे] त्वरित, वेग-युक्त (दे
 ६, २८) ।
 पडिआइय सक [प्रत्या + पा] फिर से पान
 करना । पडिआइयइ (वस १०, १) ।
 पडिआइय सक [प्रत्या + दा] फिर से ग्रहण
 करना । पडिआइयइ (वस १०, १) ।
 पडिआगय वि [प्रत्यागत] १ वापस आया
 हुआ, लौटा हुआ (पउम १६, २६) । २ न,
 प्रत्यागमन, वापस आना (भाव १) ।
 पडिआयण न [प्रत्यापन] फिर से पान,
 'वत्तस्स य पडिआयण' (दसइ १, १) ।
 पडिआयण न [प्रत्यादान] फिर से ग्रहण
 (वमइ १, १) ।
 पडिआर पु [प्रतिकार] १ चिकित्सा, उपाय,
 इलाज (भाव ४, कुमा) । २ बदला, शोध
 (भाव) । ३ पूर्वाचरित कर्म का अनुभव
 (सुअ १, ३, १, ६) ।
 पडिआर पु [प्रत्यामार] तलवार की म्यान
 (दे २, ५, स २१५), 'न एकम्मि पडियारे
 दोन्नि करवालाइ मायति' (महा) ।
 पडिआर पु [प्रतिचार] सेवा-शुश्रूषा (छाया
 १, १३—पत्र १७६) ।
 पडिआरथ वि [प्रतिचारक] सेवा-शुश्रूषा
 करनेवाला (छाया १, १३ टी—पत्र १८१) ।
 स्त्री 'रिया (छाया १, १—पत्र २८) ।
 पडिआरि वि [प्रतिचारिन्] ऊपर देखो
 (वव १) ।
 पडिइ सक [प्रति + इ] पीछे लौटना, वापस
 आना । वइ पडिइत (उप ५६७ टी) ।
 हेइ, पडिएत्तए (कस) ।
 पडिइ स्त्री [प्रतिस्ति] पतन, पात (वव ५) ।
 पडिइइ पु [प्रतीन्द्र] १ इन्द्र, देव-राज
 (पउम १०५, ६) । २ इन्द्र का सामानिक-
 देव, इन्द्र के तुल्य वैभववाला देव (पउम

—१०५, १११) । ३ वानर-वंश के एक राजा
 का नाम (पउम ६, १५२) ।
 पडिइधण न [प्रतीन्धन] अन्न-विशेष, इन्ध-
 नाक्ष का प्रतिपत्ती अन्न (पउम ७१, ६४) ।
 पडिइक्क देखो पडिक्क (भाव) ।
 पडिउचण न [दे] अपकार का बदला (पउम
 ११, ३८, ४४, १६) ।
 पडिउवण न [परिचुम्बन] सगम, सयोग
 (से २, २७) ।
 पडिउच्चार सक [प्रत्युत् + चार्य] उच्चा-
 रण करना, बोलना (भग, उवा) ।
 पडिउज्जम अक [प्रत्युद् + यम्] सम्पूर्ण
 प्रयत्न करना । पडिउज्जमति (वेइय ७८२) ।
 पडिउट्टिअ वि [प्रत्युत्थित] जो फिर से
 खड़ा हुआ हो वह (से १५, ८०, पउम ६१,
 ४०) ।
 पडिउण्ण देखो परिपुण्ण (से ५, १६) ।
 पडिउत्तर न [प्रत्युत्तर] जवाब, उत्तर (सुर
 २, १५८, भवि) ।
 पडिउत्तरण न [प्रत्युत्तरण] पार जाना, पार
 उतरना (निवृ १) ।
 पडिउत्ति स्त्री [दे] खबर, समाचार, 'अम्मा
 पियरस्स कुसलपडिउत्ती ससियेह परिउत्ती'
 (महा) ।
 पडिउत्थ वि [पयुपित] सपूर्ण रूप से
 अवस्थित (से ४, ५०) ।
 पडिउद्ध वि [प्रतिवृद्ध] १ जागृत, जगा
 हुआ (से १२, २२) । २ प्रकार-युक्त, 'जल-
 रिहिवहपडिउद्ध आअएणाअडिद्धं विअअइ
 व धणु' (से ५, २७) ।
 पडिउवयार पु [प्रत्युपकार] उपकार का
 बदला, प्रतिफल (पउम ४८, ७२, सुपा
 ११५) ।
 पडिउत्तस अक [प्रत्युत् + थस्] पुनर्जी
 वित होना, फिर से जीना । वइ पडिउत्त-
 सत्त (से ६, १२) ।
 पडिऊल देखो पडिऊल (अचु ८०, से ३,
 ३५) ।
 पडिएत्तए देखो पडिइ ।
 पडिएत्तिअ वि [दे] कृतार्थ, कृत-कृत्य (दे ६,
 ३२) ।

पक्खोड सक [प्र + छादय्] ढकना, आच्छादन करना। सक पक्खोडिय (उप ५८४)।

पक्खोड सक [प्र + स्फोटय] १ खूब भाडना। २ बारम्बार भाडना। पक्खोडिजा, वक्क पक्खोडत (दस ४, १)। प्रयो. पक्खोडा-विजा (दस ४, १)।

पक्खोड पु [प्रस्फोट] प्रमाणन, प्रतिलेखन की क्रिया-विशेष (पव २)।

पक्खोडण न [शदन्] धूनन, कँपाना (कुमा)। पक्खोडिअ वि [शदित्त] निर्भादित्त भाड कर गिराया हुआ (दे ६, २७, पाथ)।

पक्खोडिय देखो पक्खोड = शद, प्र + छादय्।

पक्खोभ सक [प्र + क्षोभय्] धुव्व करना, क्षोभ उत्पन्न कर हिला देना। कवक्क पक्खुव्वमत (से २, २४)।

पक्खोलण न [शदन्] १ स्वलित होनेवाला। २ वि हट्ट होनेवाला (राज)।

पक्खम (पै) देखो = पक्खमन्, 'पक्खमलणअण' (प्राह १२४)।

पक्खोड देखो पक्खोड = प्रस्फोट (पव २)।

पक्खर वि [प्रखर] प्रचरड, तीव्र, तेज (प्राप्र)।

पगइ छी [प्रकृति] १ प्रकृति, स्वभाव (भग, कम्म १, २, सुर १४, ६६, सुपा ११०)। २ प्रकृत अर्थ, प्रस्तुत अर्थ, 'पडिचेहदुग पगइ गमेई' (विसे २५०२)। ३ प्राकृत्व लोक, साधारण जन-समूह, 'दिन्नमुद्धारे बहुवव्व पगईण' (सुपा ५६७)। ४ कुम्भकार आदि अठारह मनुष्य जातियाँ, अठारसपगइअतराण को सो न जो एइ' (आक १२)। ५ कर्मों का भेद (सम ६)। ६ सत्त्व, रज और तम की साम्या-वस्था। ७ बलदेव के एक पुत्र का नाम (राज)। 'वय पु [वन्द] कर्म पुद्गलो मे भिन्न-शक्तियों का पैदा होना (कम्म १, २)। देखो पगडि।

पगठ पु [प्रकृष्ट] १ पीठ विशेष। २ अन्त का अग्रयन प्रदेश (जीव ३)।

पगथ सक [प्र + कथय्] निन्दा करना, 'मलिय पग(क)ये अदुवा पग(क)ये' (आचा)। पगड वि [प्रकृट] व्यक्त, खुला स्पष्ट, प्रत्यक्ष, (वि २१६)।

६४

पगड वि [प्रकृत] प्रविहित, विनिर्मित (उत्त १३)।

पगड पु [प्रगर्त्त] बडा गड्ढा या गड्ढा (आचा २, १०, २)।

पगडण न [प्रकटन] प्रकाश करना, खुला करना (एदि)।

पगडि छी [प्रकृति] १ भेद, प्रकार (भग)। २—देखो पगइ (सम ५६, सुर १४, ६८)।

पगडोकय वि [प्रकटीकृत] व्यक्त किया हुआ, स्पष्ट किया हुआ (सुपा १८१)।

पगडूड सक [प्र + कृष्] खीचना। कवक्क पगाडूडज्जमाण (विपा १, १)।

पगप्प देलो पकप्प = प्र + कल्पय्। सक पगप्पएत्ता (सूअ २, ६, ३७)।

पगप्प देखो पनप्प = प्र + कल्प (सूअ १, ८, ५)।

पगप्प वि. [प्रकल्प] १ उत्पन्न होनेवाला, प्रादुर्भूत होनेवाला, 'बहुणुणुप्पगपाई कुजा अत्तसमाहिण' (सूअ १, ३, ३, १६)। देखो पनप्प = प्रकल्प (आचा)।

पगप्पिअ वि [प्रकल्पित] प्रकल्पित, कथित, 'ए उ एयाहिं दिट्ठीहिं पुव्वमासि पगप्पिय' (सूअ १, ३, ३, १६)। देखो पकप्पिअ।

पगप्पिन्तु वि [प्रकल्पयित्तु, प्रकर्त्तयित्तु] काटनेवाला, कतरनेवाला, 'हता छेत्ता पगग्भि- (ग्भि)त्ता आयसायाणुगामिणो' (सूअ १, ८, ५)।

पगटभ अक [प्र + गल्भ्] १ घृष्टता करना, घृष्ट होना। २ समर्थ होना। पगव्भइ, पगव्भई (आचा, सूय १, २, २, २१, १, २, ३, १०, उत्त ५, ७)।

पगव्भ वि [प्रगल्भ] घृष्ट, ढीठ (पत्तम ३३, ६६)। २ समर्थ (उप २६४ टी)।

पगव्भ न [प्रागल्भ्य] घृष्टता, ढीठाई, 'पगग्भि पाणे बहुणतिवाती' (सूअ १, ७, ८)।

पगव्भणा छी [प्रगल्भना] प्रगल्भता, घृष्टता (सूअ १, १०, १७)।

पगव्भ छी [प्रगल्भा] भगवान् पारवनाथ की एक शिष्या (आवम)।

पगग्भिअ वि [प्रगल्भित] घृष्टता-युक्त (सूअ १, १, १, १३, १, २, ३, ४)।

पगग्भिन्तु वि [प्रगल्भित्तु] काटनेवाला, 'हता छेत्ता पगग्भित्ता' (सूअ १, ८, ५)।

पगय न [प्रकृत] १ प्रस्ताव, प्रसंग (सूअनि ४७)। २ पु' गाँव का अधिकारी (पव २६८)।

पगय वि [प्रगत] सगत (आवक १८६)।

पगय वि [प्रकृत] प्रस्तुत, अधिकृत (विसे ८३३, उप ४७६)।

पगय वि [प्रगत] १ प्राप्त (राज)। २ जिसने गमन करने का प्रारम्भ किया हो वह, 'भुण्णि-णोवि जहाभिमय पगया पगएण कक्खेण (सुपा २३५)। ३ न प्रस्ताव, अधिकार (सूअ १, ११, १५)।

पगय न [दे] पग, पाँव, पैर, 'एत्थतरम्मि लग्गो चडमारुओ। तेण भग्गो तुरयपगयमग्गो' (महा)।

पगर पु [प्रकर] समूह, राशि (सुपा ६५५)।

पगरण न [प्रकरण] १ अधिकार, प्रस्ताव। २ अथ खरड-विशेष, अथाश-विशेष (विसे १११५)। ३ किसी एक विषय को लेकर बनाया हुआ छोटा ग्रन्थ (उव)।

पगरिअ वि [प्रगलित] गलित्कुष्ठ, कुष्ठ-विशेष की बीमारीवाला (पिड ५७२)।

पगरिअ पु [प्रकर्ष] १ उत्कर्ष, अँछेता (सुपा १०६)। २ आधिक्य, अतिशय (सुर ४, १६६)।

पगरिसण न [प्रकर्षण] ऊपर देखो (यति १६)।

पगल अक [प्र + गल्] भरना, टपकना। वक्क. पगलत (विपा १, ७, महा)।

पगहिय वि [प्रगृहीत] ग्रहण किया हुआ, उपात्त (सुर ३, १६७)।

पगाइय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारम्भ किया हो वह, 'पगाइयाइ मगलमतेउराइ' (स ७३६)।

पगाड वि [प्रगाड] अत्यन्त गाढ़ (विपा १, १, सुपा ५३०)।

पगाम देखो पकाम (आचा, आ १४, सुर ३, ८७, कुप्र ३१५)।

पडिक्खाविअ वि [प्रतीक्षित] ? स्थापित ।
२ कृत, 'विरमालिअ संसारे जेष पडिक्खा-
विआ समयसत्था' (कुमा) ।

पडिक्खिअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा
की गई हो वह (दे ८, १३) ।

पडिक्खित्त वि [परिक्षिप्त] विस्तारित
(अंत ७) ।

पडिक्ख न [दे] ? जल वहन, जल भरने
का इति आदि पात्र । २ जलवाह, मेघ, बादल
(दे ६, २८) ।

पडिक्खी जी [दे] ऊपर देखो (दे ६, २८) ।

पडिक्ख द्वि [दे] हत, माया हुआ (?),
'किमेइया सुणहवाएण पडिक्खेएण' (महा) ।

पडिक्ख देखो पडिक्खल (भवि) । कर्म
पडिक्खियद्द (कुप्र २०५) ।

पडिक्खल देखो पडिक्खलण (वर्मवि ५६) ।

पडिक्खलिअ वि [प्रतिस्खलित] ? उका
हुआ (भवि) । २ रोक हुआ, 'सहसा त्ततो
पडिक्खलिओ अंगरक्खेए' (सुपा ५२७) ।
देखो पडिक्खलिअ ।

पडिक्खिअ अक [परि + खिद्] खिन्न होना,
क्लान्त होना । पडिक्खिअदि (शौ) (नाट—
मालती ३१) ।

पडिगमण न [प्रतिगमन] व्यावर्तन, पीछे
लौटना (वव १०) ।

पडिगय पु [प्रतिगज] प्रतिपक्षी हाथी (गउड) ।

पडिगय पुं [प्रतिगत] पीछे लौटा हुआ,
वापस गया हुआ (विपा १, १, भग औप,
महा, सुर १, १४६) ।

पडिगह देखो पडिग्गाह (दे ४, ३१) ।

पडिग्गाह सक [प्रति + ग्रह] ग्रहण
करना, स्वीकार करना । पडिग्गाहद (भवि) ।
पडिग्गाह, पडिग्गाहेहि (कप्प) । सक्र-पडिग्गा-
हिया, पडिग्गाहित्ता, पडिग्गाहेत्ता (कप्प,
आचा २, १, ३, ३) । हेक्क पडिग्गाहित्ताए
(कप्प) ।

पडिग्गाह्य वि [प्रतिग्राहक] ग्रहण करने
वाला (साया १, १—पत्र ५३, उप पृ
२६३) ।

पडिग्गाहिय वि [प्रतिगृहित] लिया हुआ,
उत्पात (सुपा १४३) ।

पडिग्गाह पु [पतद्ग्रह, प्रतिग्रह] १ पात्र,
भाजन (पणह २, ५, औप, ओघ ३६, २५१,
दे ५, ४८, कप्प) । २ कर्म प्रकृति-विरोध, वह
प्रकृति जिसमें दूसरी प्रकृति का कर्म दल
परिणत होता है (कम्मप) । °वारि वि
[°धारिन्] पात्र रखनेवाला (कप्प) ।

पडिग्गाहिअ वि [प्रतिग्रहिन्, पतद्ग्रहिन्]
पात्रवाला, 'समणे भाग महावीरे सवच्छर
साहिय मास जाव चीवरधारी होत्था,
तेण परं अचेलए पाणिएडिग्गाहिए' (कप्प) ।

पडिग्गाहिद (शौ) वि [प्रतिगृहित, परि-
गृहीत] स्वीकृत (नाट—मुच्छ ११०, रत्ना
१२) ।

पडिग्गाह देखो पडिग्गाह । पडिग्गाहेद
(उवा) । सक्र पडिग्गाहेत्ता (उवा) । हेक्क
पडिग्गाहेत्ताए (कस, औप) ।

पडिग्गाह सक [प्रति + ग्राहय] ग्रहण
करना । क्र पडिग्गाहिदन्व (शौ) (नाट) ।

पडिग्गाहय वि [प्रतिग्राहक] प्रत्यावाता,
वापस लेनेवाला (दे ७, ५६) ।

पडिग्गाय पु [प्रतिघात] ? निरोध, अटकान
(वस ६, ५८) । २ विनाश (वर्मवि ५४) ।

पडिग्गाय पु [प्रतिघात] १ नाश, विनाश ।
२ निराकरण, निरसन, 'हुक्खपडिग्गायहेच'
(आचा, सुर ७, २३४) ।

पडिग्गाय वि [प्रतिघातक] प्रतिघात करने-
वाला (उप २६४ टी) ।

पडिघोलि वि [प्रतिघूर्णित] डोलनेवाला,
हिलनेवाला (से ६, ५१) ।

पडिचित्त पुं [प्रतिचन्द्र] द्वितीय चन्द्र, जो
उत्पात आदि का सूचक है (अणु) ।

पडिचक्र न [प्रतिचक्र] अनुष्ण चक्र—सधु-
दाय (राज) । देखो पडियक = प्रतिचक्र ।

पडिचर देखो पडिअर = प्रति = चर । सक्र
पडिचरिय (वस ६, ३) । क. 'संजमो
पडिचरियव्वो' (आव ४) ।

पडिचर सक [प्रति + चर] परिभ्रमण
करना । पडिचरद (सुजज १, ३) ।

पडिचरग पु [प्रतिचरक] जासूस, चर पुरुष
(वह १) ।

पडिचरणा देखो पडिअरणा (राज) ।

पडिचार पुं [प्रतिचार] कला विशेष—१
ग्रह आदि की गति का परिज्ञान । २ रोगी
की सेवा-शुश्रूषा का ज्ञान (ज २, औप, स
६०३) ।

पडिचारय पुखी [प्रतिचारक] नौकर,
कर्मकर । जी. °रिया (सुपा ३०४) ।

पडिचोइजजमाण देखो परिचोय ।

पडिचोइय वि [प्रतिचोदित] ? प्रेरित (उप
पृ ३६४) । २ प्रतिभणित, जिसको उत्तर
दिया गया हो वह (पउम ४४, ४६) ।

पडिचोएत्तु वि [प्रतिचोदयित] प्रेरक (ग
३, ३) ।

पडिचोय सक [प्रति + चोदय] प्रेरण
करना । पडिचोएति (भग १५) । क्वक्क
पडिचोइजजमाण (भग १५—पत्र ६७६) ।

पडिचोयणा जी [प्रतिचोदना] प्रेरण
(ठा ३, ३, भग १५—पत्र ६७६) ।

पडिचोयणा जी [प्रतिचोदना] निर्भर्तना,
निष्ठुरता से प्रेरणा (विचार २३८) ।

पडिचचारग देखो पडिचारय (उप ६८६
टी) ।

पडिच्छ देखो पडिक्ख । वक्क पडिच्छत्,
'अहिसियदिण पडिच्छमाणो चिट्ठ' (उव
स १२५, महा) । क. पडिच्छियन्व
(महा) ।

पडिच्छ सक [प्रति + छप्] ग्रहण करना ।
पडिच्छद, पडिच्छति (कप्प, सुपा ३६) ।
वक्क पडिच्छमाण, पडिच्छेमाण (औप,
कप्प, साया १, १) । सक्र पडिच्छइत्ता,
पडिच्छिअ, पडिच्छिअ, पडिच्छिअण
(कप्प, अग्नि १८५, सुपा ८७, निव्व २०) ।
हेक्क पडिच्छिअ (सुपा ७२) । क. पडि-
च्छियन्व (सुपा १२५, सुर ४, १८६) ।
प्रयो कर्म पडिच्छावीअदि (शौ) (सि
५५२, नाट) । वक्क पडिच्छावेमाण
(कप्प) ।

पडिच्छद पुन [प्रतिच्छन्द] १ मूर्ति, प्रति-
विम्ब (उप ७२८ टी, स १६१, ६०६) ।
२ तुल्य, समान (से ८, ४६) । °ीकृत वि
[°ीकृत] समान किया हुआ (कुमा) ।

पञ्चइय वि [प्रत्ययिक] १ विश्वासी, विश्वास-
वाला (शाया १, १२) । २ ज्ञानवाला,
प्रत्ययवाला । ३ न श्रुत-ज्ञान, आगम-ज्ञान
(विसे २१३६) ।

पञ्चइय वि [प्रत्ययित] विश्वासवाला, विश्व-
स्त (महा: सुर १६, १६६) ।

पञ्चइय वि [प्रत्ययिक] प्रत्यय से उत्पन्न,
प्रतीति से सजात (ठा ३, ३—पत्र १५१) ।

पञ्चग न [प्रत्यङ्ग] हर एक अवयव (सुण
१५, कप्प) ।

पञ्चगिरा स्त्री [प्रत्यङ्गिरा] विद्यादेवी-विशेष,
ईस्तिवियसतवयया पभणइ पञ्चगिरा ग्रह
विच्चा' (सुपा ३०६) ।

पञ्चत पु [प्रत्यन्त] १ अनायदेश (प्रवौ
१६) । २ वि. समीपस्थ देश, सनिकुट्ट प्रान्त
भाग (सुर २, २००) ।

पञ्चतिग देखो पञ्चतिय = प्रत्यन्तिक (आचा
२, ३, १, ५) ।

पञ्चतिय वि [प्रत्यन्तिक] समीप-देश मे
त्यत (उप २११ टी) ।

पञ्चतिय वि [प्रत्यन्तिक] प्रत्यन्त देश से
आया हुआ (धम्म ६ टी) ।

पञ्चन्ख न [प्रत्यक्ष] १ इन्द्रिय आदि की
सहायता के बिना ही उत्पन्न होनेवाला ज्ञान
(विसे ८६) । २ इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाला
ज्ञान (ठा ४, ३) । ३ वि प्रत्यक्ष ज्ञान का
विषय, 'पञ्चक्खाम्पो अणुणो एणो तरुणो
महाभागो' (सुर ३, १७१) ।

पञ्चन्ख } सक [प्रत्या + ख्या] त्याग
पञ्चन्खा } करना, त्याग करने का नियम
करना । पञ्चन्खाइ (भग) । वक् पञ्चक्ख-
माण, पञ्चन्खाणमाण (पि ५६१, उवा) ।
सक् पञ्चन्खाडत्ता (पि ५८२) । क्क
पञ्चक्खेय (आव ६) ।

पञ्चक्खमाण न [प्रत्याख्यान] १ परि याग
करने की प्रतिज्ञा (भग, उवा) । २ जैन
ग्रन्थान्त-विशेष, नववो पूर्व-अर्थ (सम २६) । ३
मर्च मावय—निय कर्मों से निवृत्ति (कम्म १,
१७) । ४ अरण पु [अरण] कदापि-विशेष,
मानव-विरति का प्रतिवचक क्रोध-आदि
(कम्म १, १७) ।

पञ्चक्खणि वि [प्रत्याख्यानित्] त्याग की
प्रतिज्ञा करनेवाला (भग ६, ४) ।

पञ्चक्खणी स्त्री [प्रत्यख्यानी] भाषा-विशेष,
प्रतिषेधवचन (भग १०, ३) ।

पञ्चक्खाय वि [प्रत्याख्यात] त्यक्त, छोड़
दिया हुआ (शाया १, १; भग, कप्प) ।

पञ्चक्खायय वि [प्रत्याख्यायक] त्याग
करनेवाला, 'भतपञ्चक्खायय' (भग १४, ७) ।

पञ्चक्खाव सक [प्रत्या + ख्यापय्]
त्याग कराना, किसी विषय का त्याग करने
की प्रतिज्ञा कराना । वक्क पञ्चक्खावित
(आव ६) ।

पञ्चक्खिस्ख वि [प्रत्यक्षिन्] प्रत्यक्ष ज्ञानवाला
(वव १) ।

पञ्चक्खिलय देखो पञ्चक्खाय (सुपा ६२४) ।

पञ्चक्खीकर सक [प्रत्यक्षी + क्क] प्रत्यक्ष
करना, साक्षात् करना । भवि. पञ्चक्खीक-
रिस्स (अभि १८८) ।

पञ्चक्खीकिद्द (शौ) वि [प्रत्यक्षीकृत] प्रत्यक्ष
किया हुआ, साक्षात् जाना हुआ (पि ४६) ।

पञ्चक्खीभू अक [प्रत्यक्षी + भू] प्रत्यक्ष
होना, साक्षात् होना । संक. पञ्चक्खीभूय
(आवम) ।

पञ्चक्खेय देखो पञ्चक्खा ।

पञ्चग्ग वि [प्रत्यग्र] १ प्रवान, मुख्य (स
२४) । २ श्रेष्ठ, सुन्दर (उप ६८६ टी, सुर
१०, १५२) । ३ नवीन, नया (पाअ) ।

पञ्चच्छिम देखो पञ्चत्थिम (राज, ठा २,
३—पत्र ७६) ।

पञ्चच्छिमा देखो पञ्चत्थिमा (राज) ।

पञ्चच्छिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा
मे उत्पन्न, पश्चिम दिशा-सम्बन्धी (सम ६६,
पि ३६५) ।

पञ्चच्छिमुत्तरा देखो पञ्चत्थिमुत्तरा (राज) ।

पञ्चड अक [क्षर] भरना, टपकना । पञ्चडइ
(हे ४, १७३) । वक्क पञ्चडमाण (कुमा) ।
पञ्चडु सक [गम्] जाना, गमन करना ।
पञ्चडुइ (हे ४, १६२) ।

पञ्चड्डिय वि [क्षरित] भरा हुआ, टपका
हुआ (हे २, १७४) ।

पञ्चड्डिया स्त्री [दे. प्रत्यङ्गिमा] मल्लो का एक
प्रकार का वरण (विसे ३३५७) ।

पञ्चणीय वि [प्रत्यनीक] विरोधी, प्रतिपक्षी,
दुश्मन (उप १४६ टी, सुपा ३०७) ।

पञ्चणुभव सक [प्रत्यनु + भू] अनुभव
करना । वक्क. पञ्चणुभवमाण (शाया १,
२) ।

पञ्चणुहो देखो पञ्चणुभव । पञ्चणुहोइ (उत्त
१३, २३) ।

पञ्चत्त वि [प्रत्यक्त] जिसका त्याग करने का
प्रारम्भ किया गया हो वह (उप ८२८) ।

पञ्चत्तर न [दे] चाट्ट, खुशामद (दे ६, २१) ।

पञ्चत्थरण न [प्रत्यास्तरण] निछोना (पि
२८५) । देखो पल्दत्थरण ।

पञ्चत्थि वि [प्रत्यथिन्] प्रतिपक्षी, विरोधी,
दुश्मन (उप १०३१ टी, पाअ, कुप्र १४१) ।

पञ्चत्थिम वि [पाश्चात्य, पश्चिम] १ पश्चिम
दिशा तरफ का, पश्चिम का । २ न. पश्चिम
दिशा, 'पुरत्थिमेण लवणसमुद्दे जोयणसाह-
स्सिय खेत जाणइ, पासइ, एवं दक्खिणेण,
पञ्चत्थिमेण' (उवा, भग, आचा, ठा २, ३) ।

पञ्चत्थिमा स्त्री [पश्चिमा] पश्चिम दिशा
(ठा १०—पत्र ४७८, आचा) ।

पञ्चत्थिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पश्चिम दिशा
का (विपा १, ७, पि ५६५, ६०२) ।

पञ्चत्थिमुत्तरा स्त्री [पश्चिमोत्तरा] पश्चिमोत्तर
दिशा, वायव्य कोण (ठा १०—पत्र ४७८) ।

पञ्चत्थुय वि [प्रत्यास्तरत्] आच्छादित, ढका
हुआ (पलम ६४, ६६, जीव ३) । २
निछाया हुआ (उप ६४८ टी) ।

पञ्चद्ध न [पश्चाध] पिछला आधा, उत्तरार्ध
(गलड) ।

पञ्चद्धचक्खवट्टि पु [प्रत्यर्धचक्रवर्तिन्] वासु-
देव का प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (ती
३) ।

पञ्चपण न [प्रत्यर्पण] वापस देना, लौटा
देना (विसे ३०५७) ।

पञ्चपिपण सक [प्रति + अपर्पय्] १
वापस देना, लौटाना । २ सौंपे हुए कार्य को
करके निवेदन करना । पञ्चपिणइ (कप्प) ।
कर्म पञ्चपिणणइ (पि ५५७) । वक्क
पञ्चपिपणमाण (ठा ५, २—पत्र ३११) ।
सक्क पञ्चपिपणित्ता (पि ५५७) ।

पडिणिवुत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि + वृत् । वक्क पडिणिवुत्तमाण (वेणी २३) ।

पडिणिवुत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त (अभि ११८) ।

पडिणिवेस देखो पडिनिवेस (राज) ।

पडिणिव्यत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि + वृत् । वक्क, पडिणिव्यत्त (हेका ३३२) ।

पडिणिसत्त वि [प्रतिनिश्रान्त] ? विश्रान्त । २ निलीन (याया १, ४—पत्र ६७) ।

पडिणीय न [अत्यनीक] ? प्रतिसैन्य, प्रति-
ला की सेना (भग ८, ८) । २ वि प्रतिकूल,
त्रपली, विपरीत आचरण करनेवाला (भग
८, ८; याया १, २; सम्म १६३, औप,
मोघ ६३, द्र ३३) ।

पडिण्णात्त वि [प्रतिज्ञप्त] उक्त, कथित,
जस्त ए भिनबुत्त अयं पणमे, अहं न
बुलु पडिण्णात्त (न) तो अपडिण्णात्त (न) तौहि'
(आचा १, ८, ५, ४) ।

पडिण्णा देखो पडिण्णा (स्वप्न २०७, सूअ
१, २, २, २०) ।

पडिण्णाद देखो पडिण्णाद (पि २७६, ५६५,
नाट—मालवि १२) ।

पडित्त वि [प्रतिपत्त] स्व-शास्त्र ही में
प्रसिद्ध अर्थ, 'जो खलु सत्तसिद्धो न य पर-
दत्तेसु सो ष पडित्तो' (बृह १) ।

पडित्तणु जी [प्रतिपत्त] प्रतिभा, प्रतिबिम्ब
(वेइय ७५) ।

पडित्तणु सक [प्रतिपत्त] भोजनादि से
स करना । पडित्तणु (मोघ ५३५) ।

पडित्तणु अक [प्रति + तणु] ? चिन्ता
रग । २ खवर रगना । पडित्तणु (उत्त
१७, ५) ।

पडित्तणु वि [प्रतिपत्त] भोजन आदि
से वृत्त किया हुआ (वव १) ।

पडित्तु देखो पडित्तु (नाट—शुक ८१) ।

पडित्तु वि [प्रतिपत्त] समान, सदृश
(पजम ५, १४६) ।

पडित्त देखो पडित्त = प्रदीप्त (से १, ५,
५, ८७) ।

पडित्तणु देखो पडित्तणु (नाट—शुक १४) ।

पडित्थिर वि [दे] समान, सदृश (दे ६,
२०) ।

पडित्थिर वि [परिस्थिर] स्थिर, 'शुपत-
पडित्थिरे' (से २, ४) ।

पडित्थि वि [प्रतिस्तब्ध] गवित (उत्त १२,
५) ।

पडित्थ पु [प्रतिपठ] मुख्य दण्ड के समान
दूसरा दण्ड, 'सपडित्थेण वरिज्जमाणेण
आयवत्तेण विरायते (औप) ।

पडित्थ सक [प्रति + दर्शय] दिखलाना ।
पडित्थे (भग, उवा) । सक पडित्थेत्ता
(उवा) ।

पडित्था सक [प्रति + दा] पीछे देना, दान
का बदला देना । पडित्थे (विसे ३२४१) ।
क पडिदायव्व (कस) ।

पडिदाण न [प्रतिदान] दान के बदले में
दान, 'दाणपडिदाणउच्चिय' (उप ५६७ टी) ।

पडिदासिया जी [प्रतिदासिका] दासी
(कस ३, १ टी) ।

पडिदिसा } जी [प्रतिदिश] विदिशा,
पडिदिसि } विदिक् (राज, पि ४१३) ।

पडिदुगळि वि [प्रतिजुगुप्सिन्] ? निन्दा
करनेवाला । २ परिहार करनेवाला, 'सोमो-
दमपडिदुगळिणो' (सूअ १, २, २०) ।

पडिदुवार न [प्रतिद्वार] ? हर एक द्वार
(पण १, ३) । २ छोटा द्वार (कप्प, पण
२) ।

पडिधि देखो परिधि: 'सुरियपडिधीतो वहिता'
(सुज ६) ।

पडिनमुक्कार पु [प्रतिनमस्कार] नमस्कार
के बदले में नमस्कार—प्रणाम (रभा) ।

पडिनिकखत्त वि [प्रतिनिष्क्रान्त] बाहर
निकला हुआ (याया १, १३) ।

पडिनिकखम देखो पडिणिकखम । पडिनि-
खम (कप्प) । सक पडिनिकखमिन्ता,
(प, नग) ।

पडिनिगच्छ देखो पडिणिगच्छ । पडिनि-
गच्छ (उवा) । पडिनिगच्छति (भग) ।

पडिनिगच्छत्ता (उवा, पि ५८२) ।
पडिनिगच्छेत्ता (उवा, पि ५८२) ।
पडिनिगच्छेत्ता (उवा, पि ५८२) ।

पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनि+वृत् ।
पडिनियत्त (महा) । हेक्क, पडिनियत्तए
(कप्प) ।

पडिनियत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त
(याया १, १४, महा) ।

पडिनियत्ति जी [प्रतिनिवृत्ति] वापस
लौटना प्रत्यावर्तन (मोह ६३) ।

पडिनिवेस पु [प्रतिनिवेश] ? आग्रह,
कदाग्रह, दुराग्रह, अनुचित हठ (पव ६) ।
२ गाढ अनुशय, पक्षात्ताप (विसे २२६६) ।

पडिनिसिद्ध वि [प्रतिनिपिद्ध] निवारित,
हटाया हुआ (उप ५ ३३३) ।

पडिन्नत्त देखो पडिण्णात्त (आचा १, ८, ५,
४) ।

पडिन्नव सक [प्रति + ज्ञापय] कहना ।
सक पडिन्नविन्ता (कप्प) ।

पडिन्नव सक [प्रति + ज्ञापय] ? प्रतिज्ञा
करना । २ नियम दिलाना । पडिन्नविन्ता,
पडिन्नवेज्जा (दस ७, ८) ।

पडिन्ना देखो पडिण्णा (आचा) ।

पडिपथ पु [प्रतिपथ] ? जलटा मार्ग विपरीत
मार्ग । २ प्रतिकूलता (सूअ १, ३, १, ६) ।

पडिपथि वि [प्रतिपथिन्] प्रतिकूल,
विरोधी, 'अप्येणे पडिभासति पडिपथिमागता'
(सूअ १, ३, १, ६) ।

पडिपक्ख देखो पडिपक्ख (मोघ १३) ।

पडिपडिय वि [प्रतिपत्तित] फिर से गिरा
हुआ, 'सत्थो सिवत्थियो चालियावि पडिपडिया
भवारस्यो' (सार्ध ६४) ।

पडिपत्ति } देखो पडिपत्ति (नाट—चैव
पडिपत्ति } ३४, सलि ६) ।

पडिपह पु [प्रतिपथ] ? उन्मार्ग, विपरीत
रास्ता (स १४७, पि ३६६ ए) । २ न
अभिमुख, संमुख (सूअ २, २, ३१ टी) ।

पडिपडिअ वि [प्रतिपथिक] समुत्त आने-
वाला (सूअ २, २, २८) ।

पडिपाअ सक [प्रति + पाठय] प्रतिपादन
करना, कथन करना । क पडिपाअणीअ
(नाट—शुक ६५) ।

पडिपाय पु [प्रतिपाद] मुख्य पाद को सहा
यता पहुँचानेवाला पाद (राय) ।

पञ्चार सक [उपा + लम्भ] उपालम्भ देना, उलाहना देना । पञ्चारइ, पञ्चारति (हे ४, १५६, कुमा) ।

पञ्चारण न [उपालम्भन] प्रतिभेद (पात्र) ।

पञ्चारिअ वि [प्रचारित] चलाया हुआ (सिदि ४३६) ।

पञ्चारिय वि [उपालब्ध] जिसको उलाहना दिया गया हो वह (भवि) ।

पञ्चालिय वि [दे प्रत्यादित] आद्र किया हुआ, गीना किया हुआ, 'पञ्चालिया य से अहिययर वाहसलिलेण दिट्ठी' (स ३०८) ।

पञ्चालिंड न [प्रत्यालिंड] वाम पाद को पीछे हटा कर और दक्षिण पाँव को आगे रखकर खड़े रहनेवाले धानुष्क की स्थिति धनुषधारियों का चैतरा (वव १) ।

पञ्चावड पु [प्रत्यावर्त्त] आवर्त्त के सामने का आवर्त्त, पानी का भँवर (राय ३०) ।

पञ्चावरण्ट पु [प्रत्यापराह] मध्याह्न के बाद समय, तीसरा पहर (विपा १, ३ टि, वि ३३०) ।

पञ्चासण वि [प्रत्यासन्न] समीप में स्थित, सन्निकट, बहुत पास (विसे २६३१) ।

पञ्चासत्ति लो [प्रत्यासत्ति] समीपता, मामीप्य (मुद्रा १६१) ।

पञ्चासन्न देवो पञ्चासण, 'निच पञ्चासन्नो परिसक्कइ सव्वओ मच्चू' (उप ६ टी) ।

पञ्चासा लो [प्रत्याशा] १ आकाशा, वाग्धा, अभिलापा । २ निराशा के बाद की आशा (स - ६८) । ३ लोभ, लालच (उप ७६) ।

पञ्चासि नि [प्रत्याशिन्] वान्त या कय किया हुआ वन्तु का भरण करनेवाला (आचा) ।

पञ्चाह नक [प्रति + त्रू] उत्तर देना । पञ्चाह (विड ३७८) ।

पञ्चाहर नक [प्रत्या + ह] उपदेश देना । वक्तु 'पञ्चाहरओ वि ए हियवगमणोओ जोयणणीहारी सरो' (सम ६०) ।

पञ्चाहुत्त निनि [पञ्चान्मुत्त] पीछे, पीछे की तरफ, 'जाप न सत्तट्ट पए पञ्चाहुत्त नियत्तो ति' (धम्मवि ५४) ।

पञ्चिन देवो पञ्चिद्धम (विग, वि ३०१) ।

पञ्चुअ (दे) देवो पञ्चुहिअ (दे ६, २५) ।

पञ्चुअआर देवो पञ्चुवयार (चार ३६, नाट—मृच्छ ५७) ।

पञ्चुगगच्छणया लो [प्रत्युद्गमनता] अभिमुख गमन, (भग १४, ३) ।

पञ्चुञ्चार पु [प्रत्युञ्चार] अनुवाद, अनुभाषण (स १८४) ।

पञ्छुच्छुहणी लो [दे] तूतन सुरा, ताजा दारू (दे २, ३५) ।

पञ्चुज्जीविअ वि [प्रत्युज्जीवित] पुनर्जीवित (गा ६३१, कुप्र ३१) ।

पञ्चुद्धिअ वि [प्रत्युत्थित] जो सामने खड़ा हुआ हो वह (सुर १, १३४) ।

पञ्चुण्णम अक [प्रत्युद् + नम्] थोड़ा ऊँचा होना । पञ्चुण्णमइ (कण्) । सक्क पञ्चुण्णमित्ता (कण्, श्रौप) ।

पञ्चुत्त वि [प्रत्युत्त] फिर से बोया हुआ (दे ७, ७७, गा ६१८) ।

पञ्चुत्तर सक [प्रत्यव + तृ] नीचे आना । पञ्चुतरइ (पि ४४७) । सक्क पञ्चुत्तरित्ता (राज) ।

पञ्चुत्तर न [प्रत्युत्तर] जेवाव, उत्तर (आ १२, सुपा २१, १०४) ।

पञ्चुत्थ वि [दे] प्रत्युत्त, फिर से बोया हुआ (दे ६, १३) ।

पञ्चुत्थय } वि [प्रत्यवस्तृत] आच्छादित
पञ्चुत्थय } (याया १, १—पत्र १३, २०, कण्) ।

पञ्चुद्धरिअ वि [दे] समुखागत, सामने आया हुआ (दे ६, २४) ।

पञ्चुद्धार पु [दे] समुल प्रागमन (दे ६, २४) ।

पञ्चुप्पण } वि [प्रत्युत्पन्न] वर्त्तमान काल-
पञ्चुत्पन्न } सवन्वी (पि ५१६, भग, याया १, ८, सम्म १०३) । नय पु [नय] वर्त्तमान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पक्ष, निश्चय नय (विसे ३१६१) ।

पञ्चुत्पन्न पु [प्रत्युत्पन्न] वर्त्तमान काल (सूत्र १, २, ३, १०) ।

पञ्चुत्फलिअ वि [प्रत्युत्फलित] वापस आया हुआ (से १४, ८१) ।

पञ्चुत्तमड वि [प्रत्युत्तमड] अतिशय प्रवल (सवोच ५३) ।

पञ्चुरस न [प्रत्युरस] हृदय के सामने (राज) ।

पञ्चुल्लं अ [दे. प्रत्युत्] प्रत्युत्, उलटा, 'न तुम व्हो, पञ्चुल्ल मम पूएत्ति' (वव १) ।

पञ्चुवकार देवो पञ्चुवयार (नाट—मृच्छ २५५) ।

पञ्चुवगच्छ सक [प्रत्युप + गम्] सामने जाना । पञ्चुवगच्छइ (भग) ।

पञ्चुवगार } पुं [प्रत्युपकार] उपकार के
पञ्चुवयार } बदले उपकार (ठा ४, ४, पत्तम ४६, ३६, स ४४०, प्राह) ।

पञ्चुवयारि वि [प्रत्युपकारिन्] प्रत्युपकार करनेवाला (सुपा ५६५) ।

पञ्चुवेक्ख सक [प्रत्युप + ईक्ष्] निरीक्षण करना । पञ्चुवेक्खइ (श्रौप) । सक्क. पञ्चुवेक्खित्ता (श्रौप) ।

पञ्चुवेक्खिय वि [प्रत्युपेक्षित] अवलोकित, निरीक्षित (स ४४१) ।

पञ्चुहिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रक्षरित, अक्खी तरह चूने या टपकनेवाला (दे ६, २५) ।

पञ्चूढ न [दे] थाल, थार, भोजन करने का पात्र, बड़ी थाली (दे ६, १२) ।

पञ्चूस [दे] देवो पञ्चूह = (दे), 'किडएहि पयत्तेणवि छाइज्जइ कह णु पञ्चूसो ?' (सुर ३, १३४) ।

पञ्चूस } पु [प्रत्युप] प्रभात काल (दे २,
पञ्चूह } १४, याया १, १, गा ६०४) ।

पञ्चूह पुन [प्रत्यूह] विघ्न, अन्तराय (पात्र, कुप्र ५२) ।

पञ्चूह पु [दे] सूर्य, रवि (दे ६, ५, गा ६०४, पात्र) ।

पञ्चेअ न [प्रत्येक] प्रत्येक, हर एक (वड) ।

पञ्चेड न [दे] मुसल (दे ६, १५) ।

पञ्चेडिअ (अप) देवो पञ्चेडिअ (भवि) ।

पञ्चोगिल सक [प्रत्यव + गिल्] आस्वादन करना, रस या स्वाद लेना । वक्तु पञ्चोगिल-माण (कस ५, १०) ।

पञ्चोणामिणी लो [प्रत्यवनामिणी] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से वृक्ष आदि फल देने के लिए स्वयं नीचे नमते हैं (उप ७ १५५) ।

पडबोधिअ देखो पडिबोधिअ (अभि ५६) ।
 पडिवोह सक [प्रति + बोधय्] १ जगाना ।
 २ बोध देना, समझाना, ज्ञान प्राप्त कराना ।
 पडिवोहेइ (कप्प, महा) । कवक पडि-
 बोहिज्जन (अभि ५६) । सक पडिवोहिअ
 (नाट—मालती १३६) । हेक पडिवोहिअ
 (महा) । क पडिवोहियव्व (स ७०७) ।
 पडिवोह पु [प्रतिबोध] १ बोध, समझ ।
 २ जागृति, जागरण (गडह, पि १७१) ।
 पडिवोहग वि [प्रतिबोधक] १ बोध देने-
 वाला । २ जगानेवाला (विसे २४७ टी) ।
 पडिवोहण न [प्रतिबोधन] देखो पडि-
 वोह = प्रतिबोध (काल, स ७०८) ।
 पडिवोहि वि [प्रतिबोधिन्] प्रतिबोध प्राप्त
 करनेवाला (आचा २, ३, १, ८) ।
 पडिवोहिय वि [प्रतिबोधित] जिसको प्रति-
 बोध किया गया हो वह (खाया १, १,
 काल) ।
 पडिभग पुं [प्रतिभंग] भग, विनाश (से ५,
 १६) ।
 पडिभज अक [प्रति + भञ्ज्] भौंगना,
 हटना । हेक पडिभजिअ (वव ४) ।
 पडिभड न [प्रतिभाण्ड] एक वस्तु को
 बेचकर उसके बदले में खरीदी जाती चीज
 (स २०५, सुर ६, १५८) ।
 पडिभस सक [प्रति + भ्र शय्] भ्रष्ट करना,
 च्युत करना, 'पथाओ य पडिभसइ' (स ३६३) ।
 पडिभग्ग वि [प्रतिभग्ग] भागा हुआ,
 पलायित (शोध ५३३) ।
 पडिभड पु [प्रतिभट] प्रतिपक्षी थोडा (से
 १३, ७२, आरा ५६, भवि) ।
 पडिभण सक [प्रति + भण्] उत्तर देना,
 जवाब देना । पडिभणइ (महा, उवा, सुपा
 २१५), पडिभणामि (महानि ४) ।
 पडिभणिय वि [प्रतिभणित] प्रत्युत्तरित,
 जिसका उत्तर दिया गया हो वह (महा, सुपा
 ६०) ।
 पडिभणिय वि [प्रतिभणित] १ निपकृत
 (धर्मसं ६५०) । २ न प्रत्युत्तर, निराकरण
 (धर्मसं ६१) ।
 पडिभम सक [प्रति, परि + भ्रम्] धूमना,
 पर्यटन करना । सक 'कट्यइ कडुभावि य गयह

पति पडिभमिय सुहउसीसइ दलति' (भवि) ।
 पडिभमिय वि [प्रतिभ्रान्त, परिभ्रान्त]
 घुमा हुआ (भवि) ।
 पडिभय न [प्रतिभय] भय, डर (पउम ७३,
 १२) ।
 पडिभा अक [प्रतिभा] मालूम होना । पडि-
 भादि (शौ) (नाट—रत्ना ३) ।
 पडिभाग पु [प्रतिभाग] १ अश, भाग
 (भाग २५, ७) । २ प्रतिविम्ब (राज) ।
 पडिभास अक [प्रति + भास्] मालूम
 होना । पडिभासदि (शौ) (नाट—गुच्छ
 १४१) ।
 पडिभास सक [प्रति + भाष्] १ उत्तर
 देना । २ बोलना, कहना, 'अप्पेगे पडिभा-
 सति' (सूअ १, ३, १, ६) ।
 पडिभिण्ण वि [प्रतिभिन्न] सबद्ध, सलग्न
 (से ४, ५) ।
 पडिभिन्न वि [प्रतिभिन्न] भेद-प्राप्त
 (पव—गाथा १६, वेइय ६४२) ।
 पडिभुअग पु [प्रतिभुज्ज] प्रतिपक्षी
 अजग—वेइया लपट (कपूर २७) ।
 पडिभू पु [प्रतिभू] जामिनदार, जमानत
 करनेवाला, मनौतिया (नाट—चैत ७५) ।
 पडिभेअ पु [दे प्रतिभेद] उपालम्भ, निंदा,
 'पडिभेओ पचारण' (पाम) ।
 पडिभोइ वि [प्रतिभोगिन्] परिभोग करने-
 वाला, 'अकालपडिभोईरिण' (आचा २, ३,
 १, ८, पि ४०५) ।
 पडिभ वि [प्रतिभ] समान, तुल्य (मोह
 ३५) ।
 पडिभं देखो पडिमा । १ 'ट्टाइ वि [स्थायिन्]
 १ कायोत्सर्ग में रहनेवाला । २ नियम विशेष
 में स्थित (पएह २, १—पत्र १००, ठा ५,
 १—पत्र २६६) ।
 पडिभंत सक [प्रति + मन्त्रय्] उत्तर
 देना । पडिभतेइ (उत्त १८, ६) ।
 पडिभल्ल पु [प्रतिभल्ल] प्रतिपक्षी मल्ल
 (भवि) ।
 पडिभा स्त्री [प्रतिभा] १ मूर्ति, प्रतिविम्ब;
 'जिणपडिभादसणेण पडिबुड' (वसनि १,
 पाम, गा १, ११४) । २ कायोत्सर्ग । ३
 जैन-शास्त्रोक्त नियम-विशेष (पएह २, १,

सम १६, ठा २, ३, ५, १) । १ 'गिह न
 [गृह] मन्दिर (निचू १२) । देखो पडिभं ।
 पडिमाण न [प्रतिमान] जिससे सुवर्ण प्रादि
 का तौल किया जाता है वह रत्ती, मासा
 प्रादि परिमाण (अणु) ।
 पडिमाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, प्रतिविम्ब
 (वेइय ७५) ।
 पडिमि } सक [प्रति + मा] १ तौल
 पडिमिण } करना, माप करना । २ गिनती
 करना । कर्म पडिमिण्णइ (अणु) । कवक,
 पडिमिज्जमाण (राज) ।
 पडिमुच सक [प्रति + मुच्] छोटना ।
 हेक पडिमुचिअ (से १४, २) ।
 पडिमुण्डणा स्त्री [प्रतिमुण्डना] निषेध,
 निवारण (वृह १) ।
 पडिमुक्क वि [प्रतिमुक्त] छोटा हुआ (से ३,
 १२) ।
 पडिमोअणा स्त्री [प्रतिमोचना] छुटकारा
 (से १, ४६) ।
 पडिमोक्खण न [प्रतिमोचन] छुटकारा (स
 ४१) ।
 पडिमोयग वि [प्रतिमोचक] छुटकारा करने
 वाला (राज) ।
 पडिमोयण देखो पडिमोक्खण (श्रीप) ।
 पडियक देखो पडिक्क (आचा) ।
 पडियक न [प्रतिचक्र] गुट्टकला-विशेष,
 'तेण पुत्तो विव निष्काइत्तो ईसल्ये पडियके
 जन्तुमुक्के य अन्नासुवि कलासु' (महा) ।
 पडियग्गण न [प्रतिजागरण] सन्धान,
 खबर (धर्मसं १०१३) ।
 पडियञ्च देखो पत्तिअ = प्रति + अ ।
 पडियरण न [प्रतिकरण] प्रतीकार, इलाज
 (पिड ३६६) ।
 पडियरिअ वि [प्रतिचरित] सेवित, सेवा
 किया हुआ (मोह १०५) ।
 पडिया स्त्री [प्रतिजा] १ उद्देश्य, 'पिडवाप
 पडियाए' (कस, आचा) । २ अभिप्राय (ठा ५,
 २—पत्र ३१४) ।
 पडिया स्त्री [पटिका] वल्ल-विशेष,
 'सुपमाणा य सुसुत्ता,
 वहुत्वा तह य क्रोमता सिदिरे ।

पञ्चार सक [उपा + लम्भ] उपालम्भ देना, उलाहना देना । पञ्चारइ, पञ्चारति (हे ४, १५६, कुमा) ।

पञ्चारण न [उपालम्भन] प्रतिभेद (पात्र) ।

पञ्चारिअ वि [प्रचारित] चलाया हुआ (सिरि ४३६) ।

पञ्चारिय वि [उपालम्भ] जिसको उलाहना दिया गया हो वह (भवि) ।

पञ्चालिय वि [दे प्रत्यादित] आद्र किया हुआ, गौला किया हुआ; 'पञ्चालिया य से ग्रहियर वात्सलियेण दिट्ठी' (स ३०८) ।

पञ्चालड न [प्रत्यालड] वाम पाद को पीछे हटा कर और दक्षिण पांव को आगे रखकर खड़े रहनेवाले धानुक की स्थिति धनुषवारियों का पैतरा (वव १) ।

पञ्चावड पु [प्रत्यावर्त्त] आवर्त्त के सामने का आवर्त्त, पानी का भँवर (राय ३०) ।

पञ्चात्रणह पु [प्रत्यापराह] मध्याह्न के बाद समय, तीसरा पहर (विपा १, ३ टि, पि ३३०) ।

पञ्चासण वि [प्रत्यासन्न] समीप में स्थित, सन्निकट, बहुत पास (विसे २६३१) ।

पञ्चासत्ति लो [प्रत्यासत्ति] समीपता, मामीप्य (मुद्रा १६१) ।

पञ्चासन्न देखो पञ्चासण, 'निच पञ्चासन्नो परिसकइ सवओ मच्छ' (उप ६ टी) ।

पञ्चासा लो [प्रत्याशा] १ आकाशा, वाग्धा, अभिलाषा । २ निराशा के बाद की आशा (स - ६८) । ३ लोभ, लालच (उप पृ ७६) ।

पञ्चासि वि [प्रत्याशिन] वान्त या क्य किया हुआ वस्तु का भक्षण करनेवाला (आचा) ।

पञ्चाह नक [प्रति + ह्रू] उत्तर देना । पञ्चाह (पिड ३७८) ।

पञ्चाहर नक [प्रत्या + ह्रू] उपदेश देना । वट्ट 'पञ्चाहरओ वि ए हिपवामणोओ जोयणनीहारी मरो' (सम ६०) ।

पञ्चाहृत्त वि [पञ्चान्मुर] पीछे, पीछे की तरफ, 'जाय न सत्तु पए पञ्चाहृत्त नियत्तो णि' (धम्मि ४८) ।

पञ्चिम रेओ पञ्चिम (विग, पि ३०१) ।

पञ्चुअ (दे) देओ पञ्चुअ (दे ६, २५) ।

पञ्चुअआर देखो पञ्चुवयार (चार ३६, नाट—मृच्छ ५७) ।

पञ्चुगच्छणया लो [प्रत्युद्गमनता] अभिमुख गमन, (भग १४, ३) ।

पञ्चुञ्चार पु [प्रत्युञ्चार] अनुवाद, अनुभाषण (स १८४) ।

पञ्चुच्छुहणी लो [दे] नूतन सुरा, ताजा दारू (दे २, ३५) ।

पञ्चुज्जीविअ वि [प्रत्युज्जीवित] पुनर्जीवित (गा ६३१, कुप्र ३१) ।

पञ्चुद्धिअ वि [प्रत्युत्थित] जो सामने खड़ा हुआ हो वह (सुर १, १३४) ।

पञ्चुण्णम अक [प्रत्युद् + नम्] थोड़ा ऊँचा होना । पञ्चुण्णमइ (कप्प) । सक्क पञ्चुण्णमिता (कप्प, औप) ।

पञ्चुत्त वि [प्रत्युत्त] फिर से बोया हुआ (दे ७, ७७, गा ६१८) ।

पञ्चुत्तर सक [प्रत्यव + तृ] नीचे आना । पञ्चुत्तरइ (पि ४४७) । सक्क पञ्चुत्तरिता (राज) ।

पञ्चुत्तर न [प्रत्युत्तर] जवाब, उत्तर (आ १२, सुपा २१, १०४) ।

पञ्चुत्थ वि [दे] प्रत्युत्थ, फिर से बोया हुआ (दे ६, १३) ।

पञ्चुत्थय } वि [प्रत्यवस्तुत्] आच्छादित पञ्चुत्थय } (शाया १, १—पत्र १३, २०, कप्प) ।

पञ्चुद्धरिअ वि [दे] समुजागत, सामने आया हुआ (दे ६, २४) ।

पञ्चुद्धार पु [दे] समुख आगमन (दे ६, २४) ।

पञ्चुप्पण } वि [प्रत्युत्पन्न] वर्त्तमान काल-पञ्चुत्पन्न } सबधी (पि ५१६, भग, शाया १, ८—सम्म १०३) । 'नय पुं [नय] वर्त्तमान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पन्न, निश्चय नय (विसे ३१६१) ।

पञ्चुत्पन्न पु [प्रत्युत्पन्न] वर्त्तमान काल (सुम १, २, ३, १०) ।

पञ्चुत्फल्लिअ वि [प्रत्युत्फल्लित] वापस आया हुआ (सि १४, ८१) ।

पञ्चुत्तमड वि [प्रत्युत्तड] अतिशय प्रवल (समीप ५३) ।

पञ्चुरस न [प्रत्युरस] हृदय के सामने (राज) ।

पञ्चुल्लं अ [दे. प्रत्युत्] प्रत्युत्, उलटा, 'न तुम रुट्ठो, पञ्चुल्लं मम पूएसि' (वव १) ।

पञ्चुवकार देखो पञ्चुवयार (नाट—मृच्छ २५५) ।

पञ्चुवगच्छ सक [प्रत्युप + गम्] सामने जाना । पञ्चुवगच्छइ (भग) ।

पञ्चुवगार } पुं [प्रत्युपकार] उपकार के पञ्चुवयार } बदले उपकार (आ ४, ४, पत्रम ४६, ३६, स ४४०, प्राह) ।

पञ्चुवयारि वि [प्रत्युपकारिन्] प्रत्युपकार करनेवाला (सुपा ५६५) ।

पञ्चुवेक्ख सक [प्रत्युप + ईक्ष्] निरीक्षण करना । पञ्चुवेक्खेइ (औप) । सक्क, पञ्चुवेक्खित्ता (औप) ।

पञ्चुवेक्खिय वि [प्रत्युपेक्षित] अवलोकित, निरीक्षित (स ४४१) ।

पञ्चुहिअ वि [दे] प्रस्तुत, प्रसारित, अच्छी तरह चूने या टपकनेवाला (दे ६, २५) ।

पञ्चूढ न [दे] थाल, थार, भोजन करने का पात्र, बड़ी थाली (दे ६, १२) ।

पञ्चूस [दे] देखो पञ्चूह = (दे); 'किडएहि पयत्तेणवि छाइज्जइ कह णु पञ्चूसो ?' (सुर ३, १३४) ।

पञ्चूस } पु [प्रत्युप] प्रभात काल (हे २, पञ्चूह } १४, शाया १, १, गा ६०४) ।

पञ्चूह पुंन [प्रत्यूह] विघ्न, अन्तराय (पात्र, कुप्र ५२) ।

पञ्चूह पु [दे] सूर्य, रवि (दे ६, ५, गा ६०४, पात्र) ।

पञ्चेअन [प्रत्येक] प्रत्येक, हर एक (पड) ।

पञ्चेड न [दे] मुसल (दे ६, १५) ।

पञ्चेडिअ (अप) देखो पञ्चेडिअ (भवि) ।

पञ्चोगिल सक [प्रत्यव + गिल्] आत्वादन करना, रस या स्वाद लेना । वट्ट पञ्चोगिल-माण (कस ५, १०) ।

पञ्चोणामिणी लो [प्रत्यवनामिणी] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से बुद्ध आदि फल देने के लिए स्वयं नीचे नमते हैं (उप पृ १५५) ।

पडिलेहिय वि [प्रतिलेखित] निरोक्षित,
देखा हुआ (उवा) ।

पडिलेहियन्व देखो पडिलेह ।

पडिलोम वि [प्रतिलोम] प्रतिकूल (भग) ।
२ विपरीत, उलटा (आचा २, २, २) । ३
न परचादानुपूर्वी, उलटा क्रम, 'वत्य दुहाणुलो-
मेण तहय पडिलोमओ भवे वत्य' (सुर
१६, ४८, निचू १) । ४ उदाहरण का एक
दोष (दसनि १) । ५ अपवाद (राज) ।

पडिलोमइत्ता अ [प्रतिलोमयिदया] वाद-
विशेष, वादसभा के सदस्य या प्रतिवादी को
प्रतिकूल बनाकर किया जाता वाद—शास्त्रार्थ
(ठा ६) ।

पडिली स्त्री [दे] १ वृत्ति, वाड । २ यवनिका,
परदा (दे ६, ६५) ।

पडिव देखो पलीव = प्र + दीपय् । पडिवेइ
(से ५, ६७) ।

पडिवइर न [प्रतिवैर] वैर का बदला (भवि) ।
पडिवई देखो पडिवया (पव २७१) ।

पडिवंचण न [प्रतिवञ्चन] बदला, 'वैर-
पडिवचणहु' (पचम २६, ७३) ।

पडिवंध देखो पडिपथ (से २, ४६) ।
पडिवध देखो पडिवध (भवि) ।

पडिवंस पु [प्रतिवश] छोटा वास (राय) ।
पडिवक्क सक [प्रति + वच्] प्रत्युत्तर देना,
जवाब देना । पडिवक्कइ (भवि) ।

पडिवक्ख पु [प्रतिपक्ष] १ रिपु, दुश्मन,
विरोधी (पाम्म, गा १५२, सुर १, ५६, २,
१२६, से ३, १५) । २ छन्द-विरोध (पिग) ।
३ विपर्यय, वैपरीत्य (सण) ।

पडिवक्खिवि वि [प्रतिपक्षिक] विरुद्ध पक्ष-
वाला, विरोधी (सण) ।

पडिवक्क सक [प्रति + वज्] वापस जाना ।
पडिवक्कइ (पि ५६०) ।

पडिवक्कइ देखो पडिवक्ख, 'आह एवरमस्स
दोसो पडिवक्कइहिपि पडिवक्कणो' (गा ६७६) ।

पडिवज्ज सक [प्रति + पद्] स्वीकार
करना, अंगीकार करना । पडिवज्जइ, पडि-
वज्जए (उव, महा, प्रासू १४१) । भवि,
पडिवज्जिस्सामि, पडिवज्जिस्सामो (पि ५२७,
औप) । वक्क-पडिवज्जमाण (पि ५६२) ।
संक्क पडिवज्जिऊण, पडिवज्जिच्चाण,

पडिवज्जिय (पि ५८६, ५८३, महा,
रभा) । हेक्क पडिवज्जिउं, पडिवज्जित्तए,
पडिवज्जुं (पंचा १८, ठा २, १, कस,
रंभा) । ३ पडिवज्जियन्व, पडिवज्जेयन्व
(उत्त ३२, उप ६८४, १००१) ।

पडिवज्जण न [प्रतिपद्न] स्वीकार, अंगी-
कार (कुप्र १४७) ।

पडिवज्जण न [प्रतिपादन] अंगीकारण,
स्वीकार करवाना (कुप्र १४७, ३८६) ।

पडिवज्जणया स्त्री [प्रतिपदना] स्वीकार
(एदि २३२) ।

पडिवज्जणया स्त्री [प्रतिपादना] प्रतिपादन
(एदि २३२) ।

पडिवज्जय वि [प्रतिपादक] स्वीकार करने-
वाला, 'एस ताव कसणधवलपडिवज्जओ ति'
(स ५०५) ।

पडिवज्जावण न [प्रतिपादन] स्वीकारण,
स्वीकार कराना (कुप्र ६६) ।

पडिवज्जाविय वि प्रतिपादित] स्वीकार
कराया हुआ महा) ।

पडिवज्जिय वि [प्रतिपन्न] स्वीकृत (भवि) ।
पडिवज्जइ न [प्रतिपट्टक] एक प्रकार का
रेशमी कपडा (कप्पू) ।

पडिवज्जइव वि [प्रतिवर्धापक] १ बवाई
देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद देनेवाला ।
२ बवाई के बदले में बवाई देनेवाला । स्त्री
विभा (कप्पू) ।

पडिवज्जण वि [प्रतिपन्न] १ प्राप्त, (भग) ।
२ स्वीकृत, अंगीकृत (पड्) । ३ आश्रित
(औप, ठा ७) । ४ जिसने स्वीकार किया हो
वह (ठा ४, १) ।

पडिवज्जण पु [परिवर्त्त] परिवर्त्तन (नाट, मृच्छ
३१८) ।

पडिवज्जण देखो पडिअत्तण (नाट) ।

पडिवज्जि स्त्री [प्रतिपत्ति] १ परिच्छित्ति ।
२ प्रकृति, प्रकार (विसे ५७८) । ३ प्रवृत्ति,
खबर (पचम ४७, ३०, ३१) । ४ ज्ञान
(सुर १४, ७४) । ५ आदर, गौरव (महा) ।
६ स्वीकार, अंगीकार (एदि) । ७ लाभ,
प्राप्ति, 'धम्मपडिवज्जित्तेहउत्तेण' (महा) ।
८ मत्तान्तर । ९ अतिग्रह-विशेष (सम १०६) ।

१० भक्ति, सेवा (कुमा, महा) । ११ परि-
पाटी, क्रम (आव ४) । १२ श्रुत विशेष, गति,
इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के
जरिये समस्त ससार के जीवों को जानना
(कम्म २, ७) । 'समास पु [समास]
श्रुत-ज्ञान विशेष—गति आदि दो चार
द्वारों के जरिये जीवों का ज्ञान (कम्म १, ७) ।

पडिवज्जुं देखो पडिवज्ज ।
पडिवज्जि देखो पडिवज्जि (प्राप्र) ।

पडिवज्जिअवअ देखो पडिवज्जिअवअ । स्त्री
विभा (रभा) ।

पडिवज्जि देखो पडिवज्जि, 'पडिवज्जिअवअ
सुपुरिसाए ज होइ त होउ' (प्रासू ३, राया
१, ५, उवा, सुर ४, ५७, स ६५६, हे २,
२०६, पाम्म) ।

पडिवज्जिय (अप) देखो पडिवज्जि (भवि) ।
पडिवज्जि अक [प्रति + पत्] ऊँचे जाकर
गिरना । वक्क पडिवज्जियमाण (आचा) ।

पडिवज्जि सक [प्रति + वच्] उत्तर देना ।
भवि, पडिवज्जियामि (सुअ १, ११, ६) ।

पडिवज्जियण न [प्रतिवचन] १ प्रत्युत्तर,
जवाब (गा ४१६, सुर २, १२३, भवि) ।
२ आदेश, आज्ञा, 'देहि मे पडिवज्जियण'
(आवम) । ३ पु. हरिचय के एक राजा का
नाम (पचम २२, ६७) ।

पडिवज्जिया स्त्री [प्रतिपत्त] पडवा, पक्ष की
पड़ली तिथि (हे १, ४४, २०६, पद्) ।

पडिवज्जिय वि [प्रत्युत्त] फिर से बोया हुआ
(दे ६, १३) ।

पडिवज्जि अक [प्रति + वस्] निवास करना ।
वक्क पडिवज्जिसंत (पि ३६७, नाट—मृच्छ
३२१) ।

पडिवज्जिस भ पु [प्रतिवृपभ] मूल स्थान से
दो कोस की दूरी पर स्थित गांव (पव ७०) ।

पडिवज्जि सक [प्रति + वहु] बहन करना,
ढोना । कवहु पडिवज्जिसमाण (कप्पू) ।

पडिवज्जि देखो पडिपह (से ३, २४, ८, ३३,
पचम ७३, २४) ।

पडिवज्जि पुं [प्रतिवध, परिघ] बध, हया
(पचम ७३, २४) ।

पडिवा देखो पडिवया (सुअ १०, १४) ।

पच्छाअ—पज्जत

पच्छाअ वि [प्रच्छाय] प्रचुर छायावाला (अभि ३६)।
 पच्छाइअ वि [प्रच्छादित] १ ढका हुआ, आच्छादित। २ छिपामा हुआ (पाम्म, भवि)।
 पच्छाइज्ज देखो पच्छाअ = प्र + छादय्।
 पच्छाग पु [प्रच्छादक] पात्र बांधने का कपडा (शोध २६५ मा)।
 पच्छाडिड (शौ) वि [प्रक्षालित] धोया हुआ (नाट—पृच्छ २५५)।
 पच्छाणिअ [दे] देखो पच्छोवणिअ (पइ)।
 पच्छाणुताविअ वि [पश्चादनुतापिक] पश्चात्ताप-युक्त, पश्चात्ताप करनेवाला (राध १४१)।
 पच्छादो (शो) देखो पच्छा = पश्चात् (पि ६६)।
 पच्छायण न [पथ्यदन] पाथेय, रास्ते में खाने का भोजन, 'बहण करिय पच्छायणस्स भारिय' (महा)।
 पच्छायण न [प्रच्छादन] १ आच्छादन, ढकना। २ वि आच्छादन करनेवाला। 'या खी [ता] आच्छादन, 'परणुणपच्छायणया' (उव)।
 पच्छाल देखो पक्खाल। पच्छलेड (काल)।
 पच्छि खी [वे] पिटिका, पिटारी, वैशादि-रवित भाजन-विशेष (दे ६, १)। 'पिडय न [पिटक] 'पच्छी' रूप पिटारी (भग ७, ८ टी—पत्र ३१३)।
 पच्छि (अप) देखो पच्छइ (हे ४, ३८८)।
 पच्छिज्जमाण देखो पच्छ = प्र + अर्थय्।
 पच्छित्त न [प्रायश्चित्त] १ पाप को शुद्धि करनेवाला कर्म, पाप का क्षय करनेवाला कर्म (उव, मुवा ३६६, इ ५२)। २ मन को शुद्ध करनेवाला कर्म (पचा १६, ३)।
 पच्छित्ति नि [प्रायश्चित्त] प्रायश्चित्त का भागो, दोषो (उप ३७६)।
 पच्छिम न [पश्चिम] १ पश्चिम दिशा (उपा ७४ टि)। २ वि पश्चिम दिशा का, पाश्चात्य (मरा हे २, २१, प्राप्र)। ३ पिडना, वादना, 'सियन्स पच्छिमे नाए' (वप्प)। ४ धन्तिम, चरम, 'पूर्वमपच्छिमणए तिलवणए' (सम ४४)। 'इ न [पश्चि]

उत्तरार्ध, उत्तरी आधा हिस्सा (महा, ठा २, ३—पत्र ८१)। 'सेल पुं [शैल] अस्तावल पर्वत (गण्ड)।
 पच्छिमा खी [पश्चिमा] पश्चिम दिशा (कुमा: महा)।
 पच्छिमिल्ल वि [पाश्चात्य] पीछे से उत्पन्न, पीछे का (विसे १७६५)।
 पच्छियापिडय देखो पच्छि-पिडय (राय १४०)।
 पच्छिल (अप) देखो पच्छिम (भवि)।
 पच्छिल्ल } वि [पश्चिम, पाश्चात्य] १
 पच्छिल्लय } पश्चिम दिशा का। २ पिडना, घुड़वर्ती (पि ५६५, ५६५ टि ४)।
 पच्छुत्ताव पुं [पश्चादुत्ताप] पछतावा, पश्चात्ताप (सम्मत्त १६०, धम्मवि ३५, १२२, १३०)।
 पच्छुत्ताविअ (अप) वि [पश्चात्तापित] जिसको पश्चात्ताप हुआ हो वह (भवि)।
 पच्छेकम्म देखो पच्छे-कम्म (हे १, ७६)।
 पच्छेणय न [दे] पाथेय, रास्ते में निर्वाह करने को भोजन-सामग्री, कलेवा (दे ६, २४)।
 पच्छोववणगा } वि [पश्चादुपपन्न] पीछे
 पच्छोववन्नक } से उत्पन्न (अप)।
 पजप सक [प्र + जल्प] बोलना, कहना। पजपह (पि २६६)।
 पजपावण न [प्रजल्पन] बोलाना, कथन कराना (श्रीप, पि २६६)।
 पजपिअ वि [प्रजल्पित] कवित, उक्त, कहा हुआ (गा ६४६)।
 पजणण वि [प्रजनन] उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला (राय ११४)।
 पजणण न [प्रजनन] लिंग, पुत्र-चिह्न (विसे २५७६ टी, शोध ७२२)।
 पजल अक [प्र + जल्] १ विशेष जलना, अतिशय दग्ध होना। २ चमकना। चक, पजलत (भवि)।
 पजल्लिर वि [प्रजल्लित] अत्यन्त जलनेवाला, 'सियन्सणालपजल्लिरकम्मकतारवूमलइउव्व' (सुपा १)।
 पजह सक [प्र + हा] व्याग करना। पजहामि (पि ५००)। क. पजहियउउ (आचा)।

पजाला खी [प्रज्जाला] अग्नि-शिक्षा, आग की लौ या लपट (कुप ११७)।
 पजीवग न [प्रजीवन] प्राणोत्थिका, जीवनोपाय, रोजी (पिड ४७८)।
 पजुत्त देखो पउत्त = प्रयुक्त (चड)।
 पजूहिअ वि [प्रयूथिक] दूध या समूह को दिया हुआ, याचक-गण को अर्पित (आचा २, १, ४, २)।
 पजेमण न [प्रजेमन] भोजन-ग्रहण, भोजन लेना (राय १४६)।
 पज सक [पायय] पिलाना, पान कराना। पज्जेइ (विपा १, ६)। कक्क 'एहाइया ते तउ तव तता पज्जिज्जमाणानुत्तर रसवि' (सुप्र १, ५, १, २५)। क. पज्जेयव्व (भत्त ४०)।
 पज न [पद्य] छन्दो-बद्ध वाक्य (ठा ४, ४—पत्र २८७)।
 पज न [पाद्य] पाद-प्रसालन जल, 'अप च पज्ज च गहाय' (साया १, १६—पत्र २०६)।
 पज देखो पजत्त (दे ३३, कम्म ३, ७)।
 पजत्त पु [पर्यन्त] अन्त, सीमा, प्रान्त भाग (हे १, ५८, २, ६५, सुर ४, २१६)।
 पज्जण न [दे] पान, पीना (दे ६, ११)।
 पज्जण न [पायन] पिलाना, पान कराना (भग १४, ७)।
 पज्जण देखो पजणण (सुअति ५७)।
 पज्जणुओग } पु [पर्यन्तुओग] प्रश्न (धम्मस
 पज्जणुओग } १७६, २६२)।
 पज्जण पु [पर्जन्य] मेघ, वादल (भग १४, २, नाट पृच्छ १७५)। देखो पज्जन्न।
 पज्जतर वि [दे] दलित, विचारित (षड्)।
 पज्जत वि [पर्याप्त] १ 'पर्याप्ति' से युक्त, 'पर्याप्ति' वाला (ठा २, १, परह १, १, कम्म १, ४६)। २ समर्थ, शक्तिमान्। ३ लब्ध, प्राप्त। ४ काफी, यथेष्ट, उतना जितने से काम चल जाय। ५ न. वृत्ति। ६ सामर्थ्य। ७ निवारण। ८ योग्यता (हे २, २४, प्राप्र)। ९ कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव अपनी अपनी 'पर्याप्तियों' से मुक्त होता है वह कर्म (कम्म १, २६)। 'णाम, नाम न

३ अनुकूल करना। पडिसंधए (उत्त २७, १)। पडिसंधयाइ (सूत्र २, ६, ३)। सकृ पडिसंधाय (सूत्र २, २, २६)।
 पडिसंध } सक [प्रतिस + धा] १ आदर
 पडिसंधा } करना। २ स्वीकार करना। पडि-
 संधए (पञ्च ७)। सकृ पडिसंधाय (सूत्र
 २, २, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५)।
 पडिसमुह न [प्रतिसंमुख] समुख, सामने,
 'गम्रो पडिसमुहं पञ्चोयत्स' (महा)।
 पडिसलाघ पु [प्रतिसंलाप] प्रत्युत्तर, जवाब
 (से १, २६, ११, ३४)।
 पडिसलीण वि [प्रतिसलीन] १ सम्यक्
 लीन, अच्छी तरह लीन। २ निरोध करने-
 वाला (ठा ४, २, औप)। °पडिया स्त्री
 [°प्रतिमा] क्रोध आदि के निरोध करने की
 प्रतिज्ञा (औप)।
 पडिसविक्रव सक [प्रतिसवि + ईच्]।
 विचार करना। पडिसविक्रवे (उत्त २, ३१)।
 पडिसवेद } सक [प्रतिस + वेद्यु]।
 पडिसवेय } अनुभव करना। पडिसवेदेइ,
 पडिसवेययति (भग, पि ४६०)।
 पडिससाहण्या स्त्री [प्रतिससाधना]।
 अनुव्रजन, अनुगमन (औप, भग १४, ३,
 २५, ७)।
 पडिसहर सक [प्रतिस + ह] १ निवृत्त
 करना। २ निरोध करना। पडिसहरेज्जा
 (सूत्र १, ७, २०)।
 पडिसकक देखो परिसक। पडिसककइ
 (भवि)।
 पडिसडण न [प्रतिशदन, परिशदन] १
 सड जाना। २ विनाश, 'निरन्तरपडिसडण-
 सीलाणि श्राज्जलाणि' (काल)।
 पडिसडिय वि [परिशटित] जो सड गया
 हो, जो विशेष जीएँ हुआ हो वह (पिड
 ५१७)।
 पडिसत्तु पुं [प्रतिशत्रु] प्रतिपक्षी, दुश्मन,
 वैरी (सम १५३, पचम ५, १५६)।
 पडिसत्थ पु [प्रतिसार्थ] प्रतिकूल वृथ (निच्
 ११)।
 पडिसइ पुं [प्रतिशब्द] १ प्रतिष्वनि (पचम
 १६, ५३, भवि)। २ उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाब
 (पचम ६, ३५)।

पडिसहिय वि [प्रतिशब्दित] प्रतिष्वनि-
 युक्त (सम्मत २१८)।
 पडिसम अक [प्रति + शम्] विरत होना।
 पडिसमइ (से ६, ४४)।
 पडिसमाहर सक [प्रतिसमा + ह] पीछे
 लीच लेना 'दिट्ठि पडिसमाहरे' (दस ८,
 ५५)।
 पडिसय पु [प्रतिश्रय] उपाश्रय, साधु का
 निवास-स्थान (दस २, १, टी)।
 पडिसर पुं [प्रतिसर] १ सैन्य का पथाङ्ग
 (प्राप्र)। २ हस्त-सूत्र, वह धागा जो विवाह
 से पहले वर-वधु के हाथ में रखार्थ बाँधते हैं-
 ककण (धर्म २)।
 पडिसरण न [प्रतिसरण] ककण (पचा
 न, १५)।
 पडिसरीर न [प्रतिशरीर] प्रतिमूर्ति, 'पट्ट-
 विम्रो पडिसरीर व' (धर्मवि ३)।
 पडिसलागा स्त्री [प्रतिशलाका] पत्य-विशेष
 (कम्म ४, ७३)।
 पडिसव सक [प्रति + शप्] शाप के बदले
 में शाप देना, 'अहमाहमो त्ति न य पडि-
 हएँति सत्तावि न य पडिसवति' (उज)।
 पडिसव सक [प्रति + श्रु] १ प्रतिज्ञा
 करना। २ स्वीकार करना। ३ आदर करना।
 कृ पडिसवणीय (सरण)।
 पडिसवत्त वि [प्रतिसपत्त] विरोधी शत्रु
 (दसनि ६, १८)।
 पडिसा अक [शम्] शान्त होना। पडिसाइ
 (हे ४, १६७)।
 पडिसा अक [नश्] भागना, पलायन
 होना। पडिसाइ, पडिमति (हे ४, १७८-
 कुमा)।
 पडिसाइल्ल वि [दे] जिसका गला बैठ गया
 हो, घबरे करएज्जाना (दे ६, १७)।
 पडिसाइ सक [प्रति + शाद्यु, परि-
 शाद्यु] १ सडाना। २ पलटाना। ३ नाश
 करना। पडिसाइँति (आचा २, १५, १८)।
 सकृ पडिसाइत्ता (आचा २, १५, १८)।
 पडिसाइणां स्त्री [परिशाटना] श्रुत करना,
 अष्ट करना (वव १)।
 पडिसाम अक [शम्] शान्त होना। पडिसा-
 मइ (हे ४, १६७, पट्ट)।
 पडिसाय वि [शान्त] शान्त, शम-प्राप्त
 (कुमा)।

पडिसाय पु [दे] घबरे करए, वैठा हुआ
 गला (दे ६, १७)।
 पडिसार सक [प्रतिस्मारय] याद दिलाना।
 पडिसारेउ (भग १५)।
 पडिसार सक [प्रति + सारय] सजाना,
 सजावट करना। पडिसारेदि (शौ), कर्म
 पडिसारीअदि (शौ) (कण्व)।
 पडिसार सक [प्रति + सारय] किसकाना,
 हटाना, अन्य स्थान में ले जाना। पडिसारेइ
 (से १०, ७०)।
 पडिसार पु [दे] १ पडुता। २ वि. निपुण,
 पट्ट, चतुर (दे ६, १६)।
 पडिसार पु [प्रतिसार] १ सजावट। २
 अपसरण। ३ विनाश। ४ पराड-मुवता (हे
 १, २०६, दे ६, ७६)।
 पडिसार पु [प्रतिसार] अपसरण (हे १,
 २०६)।
 प्रडिसारण न [प्रतिस्मारण] याद दिलाना
 (वव १)।
 पडिसारणा स्त्री [प्रतिस्मारणा] सस्मारण
 (भग १५)।
 पडिसारिअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ
 (दे ६, ३३)।
 पडिसारिअ वि [प्रतिसारित] १ दूर किया
 हुआ, अपसारित (से ११, १)। २ विनाशित
 (से १४, ५८)। ३ पराड-मुव (से १३,
 ३२)।
 पडिसारी स्त्री [दे] जवनिका, परदा (दे ६,
 २२)।
 पडिसाइ सक [प्रति + कथय] उत्तर देना।
 पडिसाइज्जा (सूत्र १, ११, ४)।
 पडिसाइर सक [प्रतिस + ह] निवृत्त करना।
 पडिसाइरेज्जा (सूत्र २, २, ८५)।
 पडिसाइर सक [प्रतिस + ह] १ सनेसना,
 समेटना। २ वापस ले लेना। ३ ढँचे ले
 जाना। पडिसाइरइ (औप, छाया १, १—
 पत्र ३३)। सकृ पडिसाइरित्ता, पडिसा-
 हरिय (छाया १, १, भग १४, ७)।
 पडिसाइरण न [प्रतिसाइरण] १ समेट-
 सकीच। २ विनाश, 'सीयतेयत्तेस्सापडिसाइर-
 एहयाए' (भग १५—पत्र ६६६)।

पडिस्सुया देखो पडसुआ (राया १ ५) ।
 पडिस्सुया देखो पडिस्सुया = प्रतिश्रुता (ठा
 १०—पत्र ४७३) ।
 पडिहच्छ वि [दे] पूर्ण (सण) । देखो
 पडिहत्थ ।
 पडिहट्टु अ [प्रतिहृत्य] अर्थण करके (कस,
 बृह ३) ।
 पडिहड पुं [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा (से
 ३, ५३) ।
 पडिहण सक [प्रति + हन्] प्रतिघात करना,
 प्रतिहिंसा करना । पडिहणति (उव) ।
 पडिहणण न [प्रतिहनन] १ प्रतिघात । २
 वि. प्रतिघातक (कुप्र ३७) ।
 पडिहणणा स्त्री [प्रतिहनन] प्रतिघात (श्रीप
 ११०) ।
 पडिहणिय देखो पडिहय (सुपा २३) ।
 पडिहणिय देखो पडिभणिय (धर्मस ७०८) ।
 पडिहत्थ वि [दे] १ पूर्ण, भरा हुआ (दे ६,
 २८, पात्र, कुप्र ३४, वजा १२६, उप पृ
 १८१, सुर ४, २३६, सुपा ४८८), 'पडिह-
 त्थविबगहवइअणो ता वज्ज उजाए' (वाअ
 १५) । २ प्रतिक्रिया, प्रतिकार, बदला । ३ वचन,
 वाणी (दे ६, १६) । ४ अतिप्रभूत (जीव
 ३) । ५ अपूर्व, अद्वितीय (पड्) ।
 पडिहत्थ सक [दे] प्रत्युपकार करना, उपकार
 का बदला चुकाना । पडिहत्थेइ (से १२,
 ६६) ।
 पडिहत्थ वि [प्रतिहस्त] तिरस्कृत (चड) ।
 पडिहत्थी स्त्री [दे] वृद्धि (दे ६, १७) ।
 पडिहम्म देखो पडिहण । पडिहम्मज्जा (पि
 ५४०) । भवि पडिहम्महिइ (पि ५४६) ।
 डिहय वि [प्रतिहत्] प्रतिघात-प्राप्त (श्रीप,
 कुमा, महा, सण) ।
 पडिहर सक [प्रति + ह्] फिर से पूर्ण करना ।
 पडिहरइ (हे ४, २५६) ।
 पडिहा अक [प्रति + भा] मालूम होना,
 लगना । पडिहाइ (वज्जा १६२, पि ४८७) ।
 पडिहा स्त्री [प्रतिभा] बुद्धि-विशेष, नूतन-
 नूतन उल्लेख करने में समर्थ बुद्धि (कुमा) ।
 पडिहा देखो पडिहाय = प्रतिघात, 'पचविहा
 पडिहा पन्नत्ता, तं जहा, गतिपडिहा' (ठा ५,
 १—पत्र ३०३) ।

पडिहाण देखो पणिहाण, 'मणहुण्डिहाणे'
 (उवा) ।
 पडिहाण न [प्रतिभान] प्रतिभा, बुद्धि-
 विशेष । व वि [वत्] प्रतिभावला (सूत्र
 १, १३, १४) ।
 पडिहाय देखो पडिहा = प्रति + भा । पडिहा-
 यइ (स ४६१, स ७५६) ।
 पडिहाय पु [प्रतिघात] १ प्रतिहनन, घात
 का बदला । २ निरोध, अटकाव, रोक
 (पउम ६, ५३) ।
 पडिहार पु [प्रतिहार] इन्द्र-निमुक्त देव (पव
 ३६) ।
 पडिहार पुस्त्री [प्रतिहार] द्वारपाल, दरवान
 (हे १, २०६, राया १, ५, स्वप्न २२८,
 अग्नि ७७) । स्त्री 'री (बृह १) ।
 पडिहारिय देखो पाडिहारिय (कस, आचा
 २, २, ३, १७, १८) ।
 पडिहारिय वि [प्रतिहारित] अवरुद्ध, रोका
 हुआ (स ५४६) ।
 पडिहास अक [प्रति + भास्] मालूम
 होना, लगना । पडिहासेदि (शौ) (नाट) ।
 पडिहास पु [प्रतिभास] प्रतिभास, प्रतिमान
 (हे १, २०६, पड्) ।
 पडिहासिय वि [प्रतिभासित] जिसका
 प्रतिभास हुआ हो वह (उप ६८६ टी) ।
 पडिहुअ पु [प्रतिभू] जमीन, जमीन-
 पडिहू } दार, मनौतिया (पात्र, दे ५, ३८) ।
 पडिहू अक [परि + भू] पराभव करना,
 हराना । कवठ पडिहूअमाण (अग्नि ३६) ।
 पडो स्त्री [पटी] वज्र, कपडा (गउड, सुर ३,
 ४१) ।
 पडोआर पुं [प्रतीकार] देखो पडिआर =
 प्रतिकार (वेणी १७७, कुप्र ६१) ।
 पडोकर सक [प्रति + कृ] प्रतिकार करना ।
 पडोकरेमि (भै ६६) ।
 पडोकार देखो पडिआर (पण १, १) ।
 पडोछ देखो पडिच्छ = प्रति = इप् । पडो-
 छति (पि २७५) ।
 पडोण वि [प्रतीचीन] पश्चिम दिशासे संबन्ध
 रखनेवाला (आचा, श्रीप, ठा ५, ३) । 'वाय
 पुं [वात] पश्चिम का वायु (ठा ७) ।

पडोणा स्त्री [प्रतीची] पश्चिम दिशा (ठा
 ६—पत्र ३५६, सूत्र २, २, ५८) ।
 पडोर पुं [दे] चोर-समूह, चोरो का गूय (दि
 ६, ८) ।
 पडोव वि [प्रतीप] प्रतिकूल, प्रतिपक्षी,
 विरोधी (भवि) ।
 पडु वि [पटु] निपुण, चतुर, कुशल (श्रीप,
 कुमा, सुर २, १४५) ।
 पडु (अप) देखो पडिअ = पतिन (पिण) ।
 पडुआळिअ वि [दे] १ निपुण बनाया
 हुआ । २ ताडित, पिटा हुआ । ३ धारित
 (दे ६, ७३) ।
 पडुक्खेव पु [प्रत्युत्त्वेप] १ वायु ध्वनि ।
 २ उत्पापन, उठान (अणु १३१) ।
 पडुक्खेव पुं [प्रत्युत्थेप, प्रतिक्षेप] १ वायु
 ध्वनि । क्षेपण, फेंकना, 'समतालपडुक्खेव'
 (ठा ७—पत्र ३६४) ।
 पडुच्च अ [प्रतीत्य] १ आश्रय करके (आचा
 सूत्र १, ७, सम ३६, नव ३६) । २ अपेक्षा
 करके (भग) । ३ अधिकार करके, 'पहुच ति
 वा पप्प ति वा अहिकिच्च ति वा एण्ठ'
 (आच १, अणु) । 'करण न [करण]
 किसी की अपेक्षा से जो कुछ करना, आप-
 क्षिक कृति (बृह १) । 'भाव पु [भाव]
 सप्रतियोगिक पदार्थ, आपेक्षिक वस्तु (भाष
 २८) । 'वयण न [वचन] आपेक्षिक वचन
 (सम्म १००) । 'सच्चा स्त्री [सत्या] सत्य
 भाषा का एक भेद, अपेक्षा-कृत सत्य वचन
 (पण ११) ।
 पडुच्चा ऊपर देखो, 'जे हिसति आपणुह
 पडुच्चा' (सूत्र १, ५, १, ४) ।
 पडुजुवइ स्त्री [दे] युवति, तरुणी (दे ६,
 ३१) ।
 पडुत्तिया स्त्री [प्रत्युक्ति] प्रत्युत्तर, जवाब
 (भवि) ।
 पडुप्पणग पु [प्रत्युत्पन्न] १ वर्तमान
 पडुप्पन्न } काल (ठा ३, ४) । २ वि.
 वर्तमानिक, वर्तमान काल में विद्यमान (ठा
 १०, भग ८, ५, सम १३२, उवा) । ३
 प्राप्त, लब्ध (ठा ४, २), 'न पडुप्पणो य से
 जहोचिओ प्राहारो' (स २६१) । ४ दान,

तनुवाय, कपडा बुननेवाला (परह १, २—
पत्र २८) । बुद्धि वि [बुद्धि] प्रभुत
सूत्राणों को ग्रहण करने में समर्थ बुद्धिवाला
(श्रीप) । मडव पु [मण्डप] तबू, वज्र-
मण्डप (आक) । मा वि [वन्] पडवाला,
वज्रवाला (पड) । वास पु [वास]
वज्र में डाला जाता कुकुम-चूर्ण आदि
सुगन्धित पदार्थ (गउड, स ७३८) । साडय
पु [शाटक] १ वज्र, कपडा । २ बोती,
पहनने का लम्बा वज्र (भाग ६, ३३) । ३
बोती और दुपट्टा (खाया १, १—पत्र ५३) ।
पडचा बी [दे] प्रत्ययज्ञा) ज्या, धनुष का
चिल्ला या डोरी (दे ६, १४, पात्र) ।
पडसुअ देखो पडिसुद (पि ११५) ।
पडसुआ बी [प्रतिश्रुत्] १ प्रतिशब्द,
प्रतिवचन (हे १, ८८) । २ प्रतिज्ञा (कुमा) ।
पडसुआ बी [दे] ज्या, धनुष का चिल्ला
(दे ६, १४) ।
पडसुत्त देखो पडिसुद (प्राक ३२) ।
पडचर पु [दे] साला जैसा विदूषक आदि
(दे ६, २५) ।
पडचर पु [पटचर] चोर, तस्कर (नाट—
मुच्छ १३८) ।
पडज्जमाण देखो पडह = प्र + दह् ।
पडण न [पतन] पात, गिरना (खाया १,
१, प्रासू १०१) ।
पडणीअ वि [प्रत्यनीक] विरोधी, प्रतिपक्षी,
बेरी (स ४६६) ।
पडणीअ देखो पड = पत् ।
पडपुत्तिया बी [पटपुत्तिका] छोटा वज्र,
रुमाल (संज्ञोच ५) ।
पडम देखो पडम (पि १०४, नाट-शकु ६८) ।
पडल न [पटल] १ समूह, सघात, कुन्द
(हुमा) । २ जैन साधुओं का एक उपकरण,
निज्ञा के समय पात्र पर डका जाता वज्र-
तण्ड (परह २, ५—पत्र १४८) ।
पडल न [दे] नौत्र, नरिया, मिट्टी का बना
हुमा एक प्रकार का खपडा जिसमें मकान
छाए जाते हैं (दे ६, ५, पात्र) ।
पडलग } चीन [दे] पटलक } गडरी, गाऊ,
पडलय } उनपत्ती में 'पोट्टु', 'पोटली' ,

'पुष्पपडलमहत्याओ' (खाया १, ८) । बी.
'ळिगा, 'ळिया (स २१३, सुपा ६) ।
पडवा बी [दे] पट कुटी, पट-मण्डप, वज्र-
गृह, तबू (दे ६, ६) ।
पडह सक [प्र + दह्] जलाना, दग्ध
करना । कवक पडज्जमाण (परह १, २) ।
पडह पु [पटह] नाथ-विशेष, नगाडा, ढोल
(श्रीप, रादि, महा) ।
पडहत्थ वि [दे] पूर्ण भरा हुमा (स १८०) ।
पडहिय पु [पाटहिक] ढोल बजानेवाला,
ढोली, ढोलकिया (पत्रम ४८, ८६) ।
पडहिया बी [पटहिका] छोटा ढोल (सुर
३, ११५) ।
पडाअ देखो पलाय = परा + अय् । क.
पडाअव्व (से १४, १२) ।
पडाअ वि [पलायित] जिसने पलायन
किया हो वह, भागा हुमा (से १५, १५) ।
पडाअव्व देखो पडाअ ।
पडाइया बी [पताकिका] छोटी पताका,
अन्तर-पताका (कुप्र १४५) ।
पडाग पुं [पटाक, पताक] पताका, ध्वजा
(कप्प, श्रीप) ।
पडागा } बी [पताका] ध्वजा, ध्वज (महा,
पडाया } पात्र, हे १, २०६, प्रात्र, गउड) ।
इपडाग पु [तिपताक] १ मत्स्य की
एक जाति (विपा १, ८—पत्र ८३) । २
पताका के ऊपर की पताका (श्रीप) । हरण
न [हरण] विजय-प्राप्ति (सथा) ।
पडागार न [] नौका में लगने-
वाला वज्र (दशवे० चू० १ प्रारम्भ और अग०
१११) ।
पडायाण देखो पडाण (हे १, २५२) ।
पडायाणिय वि [पर्याणित] जिस पर पर्याण
बाधा गया हो वह (कुमा २, ६३) ।
पडाळी बी [दे] १ पत्त, श्रेणी (दे ६,
६) । २ घर के ऊपर की चटाई आदि की
कच्ची छत (वव ७) ।
पडास देखो पलास (नाट—मुच्छ २४३) ।
पडि वि [पटिन्] वज्रवाला (अणु १४४) ।
पडि अ [प्रति] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ प्रकर्ष (वव १) । २ सम्पूर्णता (वेइय
७८२) ।

पडि अ [प्रति] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ विरोध, 'पडिक्क', 'पडिवासुदेव' (गउड,
पत्रम २०, २०२) । २ विशेष, विशिष्टता-
'पडिमजरिण्डिसय' (श्रीप) । ३ बोझा, व्याप्ति-
'पडिदुवार', 'पडिपेल्लण' (परह १, ३, से ६,
३२) । ४ वापस, पीछे, 'पडिगय' (विपा
१, १, अग, सुर १, १४६) । ५ आभिमुख्य,
समुद्धता: 'पडिविरइ', 'पडिवद्ध' (परह २,
२, गउड) । ६ प्रतिदान, बदला: 'पडिदेइ'
(विसे ३२४१) । ७ फिर से, 'पडिपडिय',
'पडिविय' (साधं ६४, दे ६, १३) । ८
प्रतिनिधिपन, 'पडिच्छद' (उप ७२८ दो) ।
९ प्रतिषेध, निषेध: 'पडियाइक्किय' (अग,
सम ५६) । १० प्रतिकूलता, विपरिणता,
'पडिवय' (से २, ४६) । ११ स्वभाव,
'पडिवाइ' (ठा २, १) । १२ सामीप्य, निक
स्ता: 'पडिवेसिअ' (सुपा ५५२) । १३
आधिक्य, अतिशय: 'पडियाणए' (श्रीप) । १४,
सादर्य, तुल्यता: 'पडिईद' (पत्रम १०५,
१११) । १५ लघुता, छोटाई: 'पडिदुवार'
(कप्प, परण २) । १६ प्रशस्तता, श्लाघा:
'पडिक्क' (जीव ३) । १७ सामयिकता,
वर्तमानता (ठा ३, ४—पत्र १५८) । १८
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है, 'पडिईद'
(पत्रम १०५, ६), 'पडिउच्चारेयव्व' (अग) ।
पडि देखो परि (से ४, ५०, ५, १६, ६६,
अत ७) ।
पडिअ वि [दे] विघटित, वियुक्त (दे ६, १२) ।
पडिअ वि [पतित] १ गिरा हुमा (गा ११,
प्रासू ५, १०१) । २ जिसने चलने को
प्रारम्भ किया हो वह, 'आगयमणेण य
पडिमो' (वसु) ।
पडिअ देखो पड = पत् ।
पडिअकिअ वि [प्रत्यङ्कित] १ विभुषित ।
२ उपलिप्त, 'बहुधणसुसिएणपि पडियकिमो'
(अवि) ।
पडिअतअ पुं [दे] कर्मकर, नौकर (दे
६, ३२) ।
पडिअग सक [अनु + ज्ञ] अनुसरण
करना, पीछे जाना । पडिअगइ (हे ४,
१०७, पड्) ।

पण देखो पच (सुपा १, नव १०, कम्म २, ६, २६, ३१) । णउइ छी [°नवति] पचानवे, नवे और पांच (पि ४४६) । तीस छीन [°त्रिंशत्] पैंतीस, तीस और पांच (औप, कम्म ४, ५३, पि २७३, ४४५) । सुवइ देखो णउइ (सुपा ६७) । रस त्रि व [°दशन्] पनरह (सण) । वन्निय वि [°वर्णिक्] पांच रग का (सुपा ४०२) । वीस छीन [°विंशति] पचीस, बीस और पांच (सम ४४, नव १३, कम्म २) । वीसइ छी [°विंशति] वही अर्थ (पि ४४५) । सट्टि छी [°षट्ति] पैसठ, साठ और पांच (सम ७८, पि २७३) । सय न [°शत] पांच सौ (दं ६) । सीइ छी [°शीति] पचासी, अस्सी और पांच (कम्म २) । सुन्न न [°सुन] पांच हिसा-स्थान (राज) ।

पण पु [पण] १ शतं, होड, 'लक्खपणोण जुज्झावैतस्स' (महा) । २ प्रतिज्ञा (आक) । ३ घन । ४ विक्रय वस्तु, क्रयाणक, 'तत्थ विद्वप्पिअ पणणण' (ती ३) ।

पण पुं [प्रण] पन, प्रतिज्ञा (नाट—मालती १२४) ।

पण } न [पञ्चक] १ पांच का समूह (पच पणग } ३, १६) । २ तप-विशेष, नीची तप (सबोध ५७) ।

पणअत्तिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया हुआ (दे ६, ३०) ।

पणअन्न देखो पणपन्न (हे २, १७४ टि, राज) ।

पणइ छी [प्रणति] प्रणाम, नमस्कार (पचम ६६, ६६, सुर १२, १३३, कुमा) ।

पणइ वि [प्रणयिन्] १ प्रणयवाला, स्नेही, प्रेमी । २ पु पति, स्वामी (पाम्म, गउड ८३७) । ३ याचक, अर्थी, प्रार्थी (गउड २४६, २५१, सुर १, १०८) । ४ भृत्य, दास, 'वप्पइराप्पोत्ति पणइलवो' (गउड ७६७) ।

पणइणी छी [प्रणयिनी] पत्नी, भार्या, प्रिया, जोरू (सुपा २१६) ।

पणइय वि [प्रणयिक, प्रणयिन्] देखो पणइ = प्रणयिन् (सण) ।

पणगणा छी [पणाङ्गना] वेश्या, वारागणा (सप १०३१ टी, सुपा ४६०, कुप्र ५) ।

पणग न [पञ्चक] पांच का समूह (सुर ६, ११२, सुपा ६३६, जी ६, दं ३१, कम्म २, ११) ।

पणग पु [दे पनक] १ शैवाल, सेवार या सिवार, तृण-विशेष जो जल में उत्पन्न होता है (बृह ४, वस ८, पण १ एदि) । २ काई, वर्षा-काल में भूमि, काष्ठ आदि में उत्पन्न होने-वाला एक प्रकार का जल-मैल (आचा, पडि, ठा ८—पत्र ४२६, कप्प) । ३ कर्दम-विशेष, सूक्ष्म पक (बृह ६, भग ७, ६) । देखो पणय (दे) । मट्टिया, मत्तिया छी [°मृत्तिका] नदी आदि के पूर के खतम होने पर रह जाती कोमल चिकनी मिट्टी (जीव १, पण १—पत्र २५) ।

पणञ्च अक [प्र + नृत्] नाचना, नृत्य करना । वहु पणञ्चमाण (आया १, ८—पत्र १३३, सुपा ४७२) । छी णी (सुपा २४२) ।

पणञ्चण न [प्रनर्त्तन] नृत्य, नाच (सुपा १५४) ।

पणञ्चिअ वि [प्रनृत्तित] नाचा हुआ, जिसका नाच हुआ हो वह (आया १, १—पत्र २५) ।

पणञ्चिअ वि [प्रनृत्त] नाचा हुआ, 'अन्नया रायपुरओ पणञ्चिया देवदत्ता' (महा, कुप्र १०) ।

पणञ्चिअ वि [प्रनर्त्तित] नचाया हुआ (भवि) ।

पणट्ट वि [प्रनष्ट] प्रकर्ष से नाश को प्राप्त (सूत्र १, १, २, से ७, ८, सुर २, २४७, ३, ६६, भवि, उव) ।

पणट्ट वि [प्रणट्ट] परिगत (औप) ।

पणपण्ण देखो पणपन्न (कप्प १४७ टि) ।

पणपण्णइम देखो पणपन्नइम (कप्प १७४ टि, पि २७३) ।

पणपन्न छीन [दे पञ्चपञ्चाशात्] पचपन, पचास और पांच (हे २, १७४, कप्प, सम ७२, कम्म ४, ५४, ५५, ति ५) ।

पणपन्नइम वि [दे पञ्चपञ्चाश] पचपनवा, ५५ वां (कप्प) ।

पणपन्निय देखो पणवन्निय (इक) ।

पणपन्निय पु [पंचप्रह्मतिक] व्यन्तर देवो को एक जाति (पच १६४) ।

पणम सक [प्र + नम्] प्रणाम करना, नमन करना । पणमइ, पणमए (स ३४५, भग) । वहु पणमत (सण) । कवहु पणमिज्जत (सुपा ८८) । सह, पणमिअ, पणमिऊण, पणमिऊण, पणमित्ता, पणमित्तु (अभि ११८, प्राह, पि ५६०, भग, काल) ।

पणमण न [प्रणमन] प्रणाम, नमस्कार (उव, सुपा २७, ५६१) ।

पणमिअ देखो पणम ।

पणमिअ वि [प्रणत] १ नमा हुआ (भा, औप) । २ जिसने नमने का प्रारम्भ किया हो वह (आया १, १—पत्र ५) । ३ जिसको नमन किया गया हो वह, 'पणमिभो मणोए राया' (स ७३०) ।

पणमिअ वि [प्रणमित] नमाया हुआ (भवि) ।

पणमिर वि [प्रणम्र] प्रणाम करनेवाला, नमनेवाला (कुमा, कुप्र ३५०, सण) ।

पणय सक [प्र + णी] १ स्नेह करना, प्रेम करना । २ प्रार्थना करना । वहु, पणअठ (से २, ६) ।

पणय वि [प्रणत] १ जिसको प्रणाम किया गया हो वह, 'नरनाहणयययकमल' (सुपा २४०) । २ जिसने नमस्कार किया हो वह, 'पणयपडिवक्ख' (सुर १, ११२, सुपा ३६१) । ३ प्राप्त (सूत्र १, ४, १) । ४ निम्न, नीचा (जीव ३, राय) ।

पणय पु [प्रणय] १ स्नेह, प्रेम (आया १, ६, महा, गा २७) । २ प्रार्थना (गउड) । ३ वत वि [°वत्] स्नेहवाला, प्रेमी (उ १३१) ।

पणय पुं [दे] पक, कर्दम (दे ६, ७) ।

पणय पु [दे पनक] १ शैवाल, सेवार, तृण-विशेष । २ काई, जल-मैल (मोप ३४६) । ३ सूक्ष्म कर्दम (पण १, ५) ।

पणयाल वि [दे पञ्चचत्वारिंश] दैत्र-लीसवा, ४५ वां (पचम ४५, ४६) ।

पणयाल } छीन [दे पञ्चचत्वारिंशत्] पणयालीस } पैंतालीस, चालीस और पच, ४५ (सम ६६, कम्म २, २७, ति ३, नव, सम ६८, औप, पि ४४५) ।

पडिओसह न [प्रत्यौपध] एक औपध का प्रतिपत्ती औपध (सम्मत १४२)।

पडिसुआ देखो पडिसुआ = प्रतिश्रुत् (औप)।

पडिसुद वि [प्रतिश्रुत्] अगीकृत, स्वीकृत (प्राप्त, पि ११५)।

पडिकटय वि [प्रतिकण्टक] प्रतिस्पर्धी (राय)।

पडिकन देखो पडिकत (उप २२० टी)।

पडिन्त्तु वि [प्रतिकर्तृ] इलाज करनेवाला (ठा ४, ४)।

पडिकूप सक [प्रति + कूप] १ सजाना, सजावट करना; 'द्विपामेव भो देवाराण्यिया। कुरियस्स रणयो भिसारयुत्तस्स आभिसेक् हत्थिरयए पडिकपेहि' (औप), पडिकपेद (औप)।

पडिकपिअ वि [प्रतिकल्पम्] सजाया हुआ (विपा १, २—पत्र २३, महा, औप)।

पडिकम देखो पडिकम। कृ 'पडिकमए पडिकमओ पडिकमियन्व च आणुपुञ्जीए' (आनि ४)।

पडिकमय न देखो पडिकमय (आनि ४)।

पडिम्म न [प्रतिकर्मन्, परिकर्मन्] देखो परिकर्म (औप, सण)।

पडिकय वि [प्रतिकृत] १ जिसका बदला चुकाया गया हो वह। २ न प्रतिकार, बदला (ठा ४, ४)।

पडिमाउ } देखो पडिअर = प्रति + कृ।
पडिकाउण्य }

पडिकामणा देखो पडिकामणा (औषभा ३६ टी)।

पडिकाय पु [प्रतिकाय] प्रतिविम्ब, प्रतिमा (चेदय ७५)।

पडिकाटि औ [प्रतिकृति] १ प्रतिकार, इलाज। २ बदला (दे ६, १६)। ३ प्रति-विम्ब, मूर्ति (धमि १६६)।

पडिन्नि न [प्रतिकृत्त] ऊपर देखो (चेदय ७५)।

पडिन्करिया जी [प्रतिक्रिया] प्रतीकार, बदना, कयपडिन्करिया (औप)।

पडिन्कुट्ट वि [प्रतिकुट्ट] १ निषिद्ध, पडिन्कुट्टिन्ना } प्रतिषिद्ध (औष ४०३, पध ८, सुपा २०७), 'पडिन्कुट्टिणदिनेत्तं वज्जेजा

अट्ठमि च नवमि च' (वव १)। २ प्रतिकूल (स २७०), 'अन्नोन् पडिकुट्टा दोन्निवि एए असव्याया' (सम्म १५३)।

पडिकुट्टेला देखो पडिकुट्टिल्लग (वव १)।

पडिकूड देखो पडिकूल = प्रतिकूल (सुर ११, २०१)।

पडिकूल सक [प्रतिकूलय्] प्रतिकूल आचरण करना। वक्क 'पडिकूलत्तस्स सज्जं जिणवयण' (सुपा २०७, २०६)। कृ पडिकूले-यन्व (कुप्र २४२)।

पडिकूल वि [प्रतिकूल] १ विपरीत, उलटा (उत्त १२)। २ अनिष्ट, अनभिमत (आचा)। ३ विरोधी, विपक्ष (हे २, ६७)।

पडिकूलणा औ [प्रतिकूलना] १ प्रतिकूल आचरण। २ प्रतिकूलता, विरोध (धर्मवि ५८)।

पडिकूलिय वि [प्रतिकूलित] प्रतिकूल किया हुआ (राज)।

पडिकूवग पु [प्रतिकूपक] कूप के समीप का छोटा कूप (स १००)।

पडिकेसध पु [प्रतिकेशव] वासुदेव का प्रतिपत्ती राजा, प्रतिवासुदेव (पउम २०, २०४)।

पडिकोस सक [प्रति + क्रुश] आक्रोश करना, कोसना, शाप या गाली देना। पडि-कोसह (सुप्र २, ७, ६)।

पडिकोह पु [प्रतिकोष] गुस्सा (दस ६, ५८)।

पडिकर न [प्रत्येक] प्रत्येक, हरएक (आचा)।

पडिककत वि [प्रतिकान्त] पीछे हटा हुआ, निवृत्त (उवा, परह २, १, आ ४३, स १०६)।

पडिककम अक [प्रति+कम्] निवृत्त होना, पीछे हटना। पडिककमद (उव, महा)। पडिककमे (आ ३, ५, पच १२)। हैक, पडिककमिउ, पडिककमित्तए (धर्म २, कस, ठा २, १)। संकृ पडिककमित्ता (आचा २, १५)। कृ पडिककतव्व, पडिककमित्तव्व (आवम, औष ८००)।

पडिकम पु [प्रतिक्रम] देखो पडिक्रमए, 'गिहिपडिक्रमादयाराए' (पव—गाया २)।

पडिक्रमण न [प्रतिक्रमण] १ निवृत्ति, व्यावर्तन। २ प्रमाद-वश शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना। ३ अशुभ व्यापार से निवृत्त होकर उत्तरोत्तर शुद्ध योग में वर्तन (परह २, १, औप, चउ ५, पडि)। ४ मिथ्या-दुष्कृत-प्रदान, किए हुए पाप का पश्चाताप (ठा १०)। ५ जैन साधु और गृहस्थों का सुवह और शाम को करने का एक आवश्यक अनुष्ठान (आ ४८)।

पडिक्रमय वि [प्रतिक्रामक] प्रतिक्रमण करनेवाला, 'जीवो उ पडिक्रमओ अनुहाणं पावकम्मजोगाए' (आनि ४)।

पडिक्रमिउं देखो पडिक्रम। 'काम वि [काम] प्रतिक्रमण करने की इच्छावाला (खाया १, ५)।

पडिक्रय पु [दे] प्रतिक्रिया, प्रतीकार (दे ६, १६)।

पडिक्रामणा औ [प्रतिक्रमणा] देखो पडि-कमण (औष ३६ आ)।

पडिक्रकूल देखो पडिकूल (हे २, ६७, षड्)।

पडिक्रख सक [प्रति + ईत्त] १ प्रतीक्षा करना, वाट देखना, वाट जोहना। २ अक. स्थिति करना। पडिक्रखइ (षड्, महा)। वक्क, पडिक्रखत (पउम ५, ७२)।

पडिक्रखअ वि [प्रतीक्षक] प्रतीक्षा करने-वाला, वाट जोहनेवाला (गा ५५७ अ)।

पडिक्रखअ पु [प्रतिस्तम्भ] अर्गला, अररगला, आगल, अगरी, ब्योडा (से ६, ३३)।

पडिक्रखण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाट, राह (दे १, ३४, कुमा)।

पडिक्रखर वि [दे] १ क्रूर, निर्दय (दे ६, २५)। २ प्रतिकूल (षड्)।

पडिक्रखल अक [प्रति + खल] १ हटना। २ गिरना। ३ रुकना। ४ सक रोकना। वक्क पडिक्रखलंत (अवि)।

पडिक्रखलण न [प्रतिखलण] १ पतन। २ अवरोध (आवम)।

पडिक्रखलिअ वि [प्रतिखलित] १ परावृत्त, पीछे हटा हुआ (से १, ७)। २ रुका हुआ (से १, ७, अवि)। देखो पडिखलिअ।

'संकायाणाणि स्ववाणि वज्जेज्जा पणिहाएण'
(उत्त १६, १४)।

पणिहाय देखो पणिहा ।

पणिहि पुञ्जी [प्रणिधि] १ एकाग्रता, अवधान
(परह २, ५)। २ कामना, अभिलाष (स
८७)। ३ पु. चरपुरुष, दूत (परह १, ३,
पात्र, सुर ३, ४, सुपा ४६२)। ४ चेष्टा,
व्यापार (दसनि १)। ५ माया, कपट (आव
४)। ६ व्यवस्थापन (राज)।

पणिहि पुञ्जी [प्रणिधि] बडा निधि (दस
८, १)।

पणिहित्य वि [प्रणिहित] १ प्रयुक्त, व्यावृत्त
(दसनि ८)। २ व्यवस्थित (आव ४)।

पणीय वि [पणीत] १ निर्मित, कृत, रचित,
'बद्धसेसिय पणीय' (विसे २५०७, सुर १२,
६२, सुपा २८, १६७)। २ स्निग्ध, घृत
आदि स्नेह की प्रचुरतावाला, 'विभूसा इत्यो-
ससणी पणीयरसभोगण' (दस ८, ५७, उत्त
१६, ७, श्रौष १५० भा, श्रौष, बृह ५)। ३
निरूपित, प्ररूपित, आख्यात (अणु, आव
३)। ४ मनोज्ञ, सुन्दर (भग ५, ४)। ५
सम्यग् आचरित (सूत्र १, ११)।

पणीहाण देखो पणिहाण (आत्म ८, हित
१५)।

पणुल्ल देखो पणोल्ल। वहु पणुल्लेमाण (पि
२२४)।

पणुल्लिअ देखो पणोल्लिअ (पात्र, सुपा २४,
प्रासू १६६)।

पणुवीस खीन [पञ्चविंशति] सख्या-विशेष,
पचीस, बीस और पाँच। २ जिनकी सख्या
पचीस हो वे (स १०६, पि १०४, २७३)।

पणुवीसइम वि [पञ्चविंशतितम] पचीसवाँ,
२५ वाँ (विसे ३१२०)।

पणोल्ल सक [प्र + णुद्] १ प्रेरणा करना।
२ फँकना। ३ नाश करना। पणोल्लइ
(प्राप्र), 'पावाइं कम्माइं पणोल्लयामो' (उत्त
१२, ४०)। कबहु पणोल्लिज्जमाण (एयाया
१, १, परह १, ३)। सहु पणोल्ल (सूत्र
१, ८)।

पणोल्लण न [प्रणोदन] प्रेरणा (ठा ८, उप
वृ ३४१)।

पणोल्लय वि [प्रणोदक] प्रेरक (आवा)।

पणोल्लि वि [प्रणोदिन्] १ प्रेरणा करनेवाला।
२ पु. प्राजन दण्ड, बैल इत्यादि हाँकने की
सडकी (परह १, ३—पत्र ५४)।

पणोल्लिअ वि [प्रणोदित] प्रेरित (श्रौष, पि
२४४)।

पण्ण वि [प्रज्ञ] जानकार, दक्ष, निपुण (उत्त
१, ८, सूत्र १, ६)।

पण्ण वि [प्राज्ञ] १ प्रज्ञावाला, बुद्धिमान्, दक्ष
(हे १, ५६, उप ६२३)। २ वि. प्राज्ञ-
सम्बन्धी (सूत्र २, १)।

पण्ण न [पर्ण] पत्र पत्ता, पत्ती (कुमा)।

पण्ण देखो पणिअ = परय (नाट)।

पण्ण खीन [दे] पचास, ५०। खी ०ण्णा
(षट्)।

पण्ण देखो पच, पण (पि २७३, ४४०,
४४५)। ०रस त्रि व [०दशन्] पनरह,
१५ (सम २६, उवा)। ०रसम वि [०दश]
पनरहवा (उवा)। ०रसी खी [०दशी] १
पनरहवी। २ तिथि-विशेष (पि २७३, कण्य)।
०रह देखो ०रस (प्राप्र)। ०रह वि [०दश]
पनरहवाँ, १५ वाँ (प्राप्र)। देखो पन्न =
पच।

पण्ण वि [पर्ण] पर्ण सम्बन्धी, पत्ते का,
पत्ती से सवन्ध रखनेवाला (राज)।

पण्ण० देखो पण्णा०। ०व वि [०वन्] प्रज्ञा-
वाला (उप ६१२ टी)।

पण्णई [पन्नगा] भगवान् धर्मनाथ की शासन-
देवी (पच २७)।

पण्णग पु [पन्नग] सर्प, साँप (उप ७२८
टी)। ०सन पुं [०शन] गहड पक्षी (पिंग)।
देखो पन्नय।

पण्णग वि [दे पन्नक] दुर्गन्धी। ०तिल पु
[०तिल] दुर्गन्धी तिल (राज)।

पण्णट्टि खी [पञ्चपट्टि] पैंसठ, गठ और
पाँच, ६५ (कण्य)।

पण्णत्त वि [प्रज्ञप्त] निरूपित, उपदिष्ट, कथित
(श्रौष, उवा, ठा ३, १, ४, १, २, विपा
१, १, प्रासू १२१)। २ प्रणीत, रचित
(आवम, चद २०, भग ११, ११, श्रौष)।

पण्णत्ति खी [प्रज्ञप्ति] १ विद्यादेवी विशेष
(ज १)। २ जैन धाम भय विशेष, सूर्य-
प्रज्ञप्ति यादि उपाग-भय (ठा ३, १, ४, १)।

३ विद्या-विशेष (आवू १)। ४ प्ररूपण,
प्रतिपादन (उवा, वव ३)। ०खेवणी खी
[०क्षेपणी] कथा का एक भेद (ठा ४, २)।
०पक्खेवणी खी [०प्रक्षेपणी] कथा का एक
भेद (राज)।

पण्णपण्णिय पु [पण्णपर्णि] व्यन्तर देवों
की एक जाति (इक)।

पण्णय देखो पण्णय (से ४, ४)।

पण्णय सक [प्र + ज्ञापय] प्ररूपण करना,
उपदेश करना, प्रतिपादन करना। परणवेद,
परणवेँति (उवा, भग)। वहु, पण्णययत
पण्णवेमाण (भग, पि ५५१)। क पण्ण-
वणिज्ज (इ ७)।

पण्णयग वि [प्रज्ञापक] प्ररूपक, प्रतिपादक
(विसे ५४६)।

पण्णयण न [प्रज्ञापन] १ प्ररूपण, प्रति-
पादन। २ शास्त्र, सिद्धान्त (विसे ८६४)।

पण्णयण वि [प्रज्ञापन] ज्ञापक, निरूपक
(सवोध ५)।

पण्णयणा खी [प्रज्ञापना] १ प्ररूपण, प्रति-
पादन (एयाया १, ६, उवा)। २ एक जैन
आगम ग्रन्थ, 'प्रज्ञापना' सूत्र (भग)।

पण्णयणिज्ज देखो पण्णय।

पण्णयणी खी [प्रज्ञापनी] भाषा विशेष, धर्म
बोधक भाषा (भग १०, ३)।

पण्णयण्ण खीन [दे, पञ्चपञ्चाशत्] पच
पच, पचास और पाँच (दे ६, २७, पट्)।
पण्णयय देखो पण्णयग (विसे ५४७)।

पण्णययत देखो पण्णय।

पण्णययि वि [प्रज्ञापित] प्रतिपादित, प्ररु-
पित (अणु, उत्त २६)।

पण्णय्येत्तु वि [प्रज्ञापयित्ठ] प्रतिपादक, प्ररु-
पण करनेवाला (ठा ७)।

पण्णवेमाण देखो पण्णय।

पण्णा सक [प्र + ज्ञा] १ प्रकर्ष से जानना।
२ अच्छी तरह जानना। धर्म, परणामति
(भग)।

पण्णा देखो पण्ण (दे)।

पण्णा खी [प्रज्ञा] मनुष्य की दम अवस्थाओं
में पाँचवी अवस्था (नट्ट १६)।

पण्णा यी [प्रज्ञा] १ गुट्टि, मति (उत्त १५६
७२८ टी, निचू १)। २ ज्ञान (सूत्र १,

पडिच्छद—पडिणिविट्

पडिच्छद पु [दे] मुख, ब्रह्म (दे ६, २४) ।
 पडिच्छद्ग वि [प्रत्येषक] ग्रहण करनेवाला (निबू ११) ।
 पडिच्छण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाट, राह (उप ३७८) ।
 पडिच्छण न [प्रत्येषण] १ ग्रहण, आदान, लेना । २ उत्सारण, विनिवारण, 'कुलिसपडिच्छणजोगा पच्छा कडया महिहरण' (गण्ड) ।
 पडिच्छणा [प्रत्येषणा] ग्रहण, आदान (निबू १६) ।
 पडिच्छण } वि [प्रतिच्छन्न] आच्छादित,
 पडिच्छन्न } ढका हुआ (खाया १, १—पत्र १३, कप्) ।
 पडिच्छय पु [दे] समय, काल (दे ६, १६) ।
 पडिच्छय देवो पडिच्छग (श्रीप) ।
 पडिच्छयण न [प्रतिच्छदन] देखो पडिच्छायण (राज) ।
 पडिच्छा ली [प्रतीच्छा] ग्रहण, शरीकार (द्र ३३, मण) ।
 पडिच्छायण न [प्रतिच्छादन] आच्छादन-वन्न, प्रच्छादन-पट, 'हिरिपडिच्छायण च नो नचाएमि अहियामित्तए' (आचा, एयाया १, १—पत्र १५ टी) ।
 पडिच्छायण न [प्रतिच्छादन] आच्छादन, आतरण (सुज २०) ।
 पडिच्छाया ली [प्रतिच्छाया] प्रतिविम्ब, परछाई (उप ५६३ टी) ।
 पडिच्छविमाग देसो पडिच्छ = प्रति + इप् ।
 पडिच्छअ वि [प्रतीष्ट, प्रतीप्सित] १ गृहीत, स्वीकृत (म ७, ५४, उवा, श्रीप, सुपा ८४) । २ विशेष रूप से वाञ्छित (भग) ।
 पडिच्छिअ देसो पडिच्छ = प्रति + इप् ।
 पडिच्छिआ ली [दे] १ प्रतिहारी । २ चिर-काल में ज्योती हुई अंस (दे ६, २१) ।
 पडिच्छिअ देसो पडिच्छ = प्रति + इप् ।
 पडिच्छिअ वि [प्रतीक्षिण] प्रतीक्षा करने-वाला, नाट देयनेवाला (वज्जा ३६) ।
 पडिच्छिअ नि [प्रातीच्छिअ] अपने दोस्त-पु को आगा लेकर दूसरे गच्छ के आचार्य के पाग उन्नी अनुमति से शास्त्र पढ़नेवाला मुनि (एदि ५५) ।

पडिच्छिर वि [दे] सहश, समान (हे २, १७४) ।
 पडिच्छद देसो पडिच्छद, 'पडिच्छ निपथडिच्छद' (उप ७२८ टी) ।
 पडिच्छा ली [प्रतीक्षा] प्रतीक्षण, वाट (शोच १७५) ।
 पडिच्छाया देसो पडिच्छाया (वेइय ७५) ।
 पडिजंप सक [प्रति + जल्प] उत्तर देना । पडिजपइ (भवि) ।
 पडिजग देसो पडिजागर = प्रति + जागृ । पडिजगइ (वृह ३) ।
 पडिजगय वि [प्रतिजागरक] सेवा-शुश्रूषा करनेवाला (उप ७६८ टी) ।
 पडिजगिय वि [प्रतिजागृत] जिसकी सेवा-शुश्रूषा की गई हो वह (सुर ११, २४) ।
 पडिजागर सक [प्रति + जागृ] १ सेवा-शुश्रूषा करना, निर्वाह करना, निभाना । २ गवेषणा करना । पडिजागरंति (कप्) । वक्क पडिजागरमाण (विपा १, १, उवा, महा) ।
 पडिजागर पु [प्रतिजागर] १ सेवा-शुश्रूषा । २ चिकित्सा, 'अणियो सिट्ठी आणसु विज पडिजागरण' (सुपा ५७६) ।
 पडिजागरण न [प्रतिजागरण] ऊपर देखो (वव ६) ।
 पडिजागिरय देसो पडिजगिय (दे १, ४१) ।
 पडिजायणा ली [प्रतियातना] प्रतिविम्ब, प्रतिमा, परछाई (वेइय ७५) ।
 पडिजुवइ ली [प्रतियुवति] १ स्व-समान अन्य युवति । २ सपत्नी (कुप्र ४) ।
 पडिजोग पु [प्रतियोग] कामंण आदि योग का प्रतिपातक योग, चूर्ण-विशेष (सुर ८, २०४) ।
 पडिट्ठ वि [पटिष्ट] अत्यन्त निपुण, बहुत चतुर (सुर १, १३५, १३, ६६) ।
 पडिट्ठविअ वि [परिस्थापित] सत्यापित (से ५, ५२) ।
 पडिट्ठविअ वि [प्रतिष्ठापित] जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो वह (अचु ६४) ।
 पडिट्ठा देसो पडिट्ठा (नाट—मालती ७०) ।
 पडिट्ठाव सक [प्रति + स्थापय] प्रतिष्ठित करना । पडिट्ठावेहि (पि २२०, ५५१) ।

पडिट्ठावअ देसो पडिट्ठावय (नाट—वेणी ११२) ।
 पडिट्ठाविद (शौ) देसो पडिट्ठाविय (अभि १८७) ।
 पडिट्ठिअ देसो पडिट्ठिय (वड, पि २२०) ।
 पडिठाण न [प्रतिस्थान] हर जगह (वर्मवि ४) ।
 पडिण देसो पडिण (पि ८२, ६६) ।
 पडिणव वि [प्रतिनव] नया, नूतन, 'पुरअ-पडिणवकुधाद एयरतरखडिद' (विक्र २६) ।
 पडिणिसण न [दे] रात में पहनने का वस्त्र (दे ६, ३६) ।
 पडिणिअत्त अक [प्रतिनि + वृत्] पीछे लौटना, पीछे वापस जाना । पडिणियत्तई (श्रीप) । वक्क पडिणअत्तंत, पडिणअत्त-माण (से १३, ७५, नाट—मालती २६) । सक पडिणियत्तित्ता (श्रीप) ।
 पडिणिअत्त } वि [प्रतिनिवृत्त] पीछे लौटा
 पडिणिउत्त } हुआ (गा ६८ अ, विपा १, ५, उवा, से १, २६, अमि १२४) ।
 पडिणिअत्त वि [प्रतिनिकाश] समान, तुल्य (राय ६७) ।
 पडिणिकखम अक [प्रतिनिर + क्रम] बाहर निकलना । पडिणिकखमइ (उवा) । सक पडिणिकखमित्ता (उवा) ।
 पडिणिगच्छ अक [प्रतिनिर + गप्] बाहर निकलना । पडिणिगच्छइ (उवा) । सक पडिणिगच्छित्ता (उवा) ।
 पडिणिजाय सक [प्रतिनिर + यापय] अर्पण करना । पडिणिज्जाएमि (एयाया १, ७—पत्र ११८) ।
 पडिणिभ वि [प्रतिनिभ] १ सहश तुल्य, बराबर । २ हेतु-विशेष, वादी की प्रतिज्ञा का खडन करने के लिए प्रतिवादी की तरफ से प्रयुक्त समान हेतु—युक्ति (वा ४, ३) ।
 पडिणिवत्त देसो पडिणअत्त = प्रतिनि + वृत् । वक्क पडिणिवत्तमाण (नाट रत्ना ५४) ।
 पडिणिवत्त देसो पडिणअत्त = प्रतिनिवृत्त (काळ) ।
 पडिणिविद्ध वि [प्रतिनिविट्] द्विष्ट, द्वेष-युक्त (परह १, १—पत्र ७) ।

'सकाथायाणि सव्वाणि वज्जेज्जा पण्हिहाएव'
(उत्त १६, १४)।

पणिहाय देखो पणिहा ।

पणिहि पुत्री [प्रणिधि] १ एकाग्रता, अवधान
(पएह २, ५) । २ कामना, अभिलाष (स
८७) । ३ पुं चरपुरुष, दूत (पएह १, ३,
पाम्र, सुर ३, ४, सुपा ४६२) । ४ चेट्टा,
व्यापार (दसनि १) । ५ माया, कपट (आव
४) । ६ व्यवस्थापन (राज) ।

पणिहि पुत्री [प्रणिधि] बडा निधि (दस
८, १) ।

पणिहिय वि [प्रणिहित] १ प्रयुक्त, व्यापृत
(दसनि ८) । २ व्यवस्थित (आव ४) ।

पणीय वि [प्रणीत्] १ निर्मित, कृत, रचित,
'वइसेसिय पणीय' (विसे २५०७, सुर १२,
६२, सुपा २८, १६७) । २ स्निग्ध, घृत
आदि स्नेह की प्रचुरतावाला, 'विभूमा इत्यो-
संसग्गी पणीयरसभोयण' (दस ८, ५७, उत्त
१६, ७, श्रौष १५० भा, श्रौष, वृह ५) । ३
निरूपित, प्ररूपित, आख्यात (अणु, आव
३) । ४ मनोज्ञ, सुन्दर (भग ५, ४) । ५
सम्यग् आचरित (सूत्र १, ११) ।

पणीहाण देखो पणिहाण (आत्म ८, हित
१५) ।

पणुह देखो पणोह । वक्क, पणुहेमाण (पि
२२४) ।

पणुह्तिअ देखो पणोह्तिअ (पाम्र, सुपा २४,
प्रासू १६६) ।

पणुवीस लीन [पञ्चविंशति] सख्या-विशेष,
पचीस, बीस और पांच । २ जिनकी सख्या
पचीस ही वे (स १०६, पि १०४, २७३) ।

पणुवीसइम वि [पञ्चविंशतितम] पचीसवाँ,
२५ वाँ (विसे ३१२०) ।

पणोह सक [प्र + णुद्] १ प्रेरणा करना ।
२ फेंकना । ३ नाश करना । पणोल्लइ
(पाम्र), 'पावाइ कम्माइ पणोल्लयामो' (उत्त
१२, ४०) । कवक्क पणोल्लिज्जमाण (आया
१, १, पएह १, ३) । सक्क पणोह (सूत्र
१, ८) ।

पणोहण न [अणोदन] प्रेरणा (ठा ८, उप
पृ ३४१) ।

पणोह्य वि [अणोदक] प्रेरक (आचा) ।

पणोह्ति वि [अणोदिन्] १ प्रेरणा करनेवाला ।
२ पु प्राजन दरइ, वैल इत्यादि हाकने की
लडकी (पएह १, ३—पत्र ५४) ।

पणोह्तिअ वि [अणोदित] प्रेरित (श्रौष, पि
२४४) ।

पण्ण वि [प्रज्ञ] जानकार, दक्ष, निपुण (उत्त
१, ८, सूत्र १, ६) ।

पण्ण वि [प्राज्ञ] १ प्रज्ञावाला, बुद्धिमान् दक्ष
(हे १, ५६, उप ६२३) । २ वि प्राज्ञ-
सम्बन्धी (सूत्र २, १) ।

पण्ण न [पर्ण] पत्र पत्ता, पत्ती (कुमा) ।

पण्ण देखो पणिअ = परय (नाट) ।

पण्ण लीन [दे] पचास, ५० । ली, °ण्णा
(षड्) ।

पण्ण देखो पंच, पण (पि २७३, ४४०,
४४५) । °रस त्रि व [°दशन्] पनरह,
१५ (सम २६, उवा) । °रसम वि [°दश]
पनरहवा (उवा) । °रसी ली [°दशी] १
पनरहवी । २ तिथि-विशेष (पि २७३, कप्प) ।
°रह देखो °रस (पाम्र) । °रह वि [°दश]
पनरहवाँ, १५ वाँ (पाम्र) । देखो पत्र =
पत्र ।

पण्ण वि [पर्ण] पर्ण सम्बन्धी, पत्ते का,
पत्ती से संबन्ध रखनेवाला (राज) ।

पण्ण° देखो पण्णा° । °व वि [°वन्] प्रज्ञा-
वाला (उप ६१२ टी) ।

पण्णई [पन्नग] भगवान् धर्मनाथ की शासन-
देवी (पव २७) ।

पण्णाग पु [पन्नग] सर्प, साँप (उप ७२८
टी) । °सन पुं [°शन्] गहड पक्षी (पिग) ।
देखो पन्नय ।

पण्णाग वि [दे पन्नक] दुर्गन्धी । °तिल पु
[°तिल] दुर्गन्धी तिल (राज) ।

पण्णाहि ली [पञ्चपट्टि] पेंसठ, साठ और
पांच, ६५ (कप्प) ।

पण्णत्त वि [प्रज्ञप्त] निरूपित, अनिष्ट, कथित
(श्रौष, उवा, ठा ३, १, ४, १, २, विपा
१, १, प्रासू १२१) । २ प्रणीत, रचित
(आवम, चद २०, भग ११, ११, श्रौष) ।

पण्णात्ति ली [प्रज्ञप्ति] १ विद्यादेवी-विशेष
(ज १) । २ जैन आगम त्रय विशेष, नृप-
प्रज्ञप्ति आदि उपाग-त्रय (ठा ३, १, ४, १) ।

३ विद्या-विशेष (प्राज्ञ १) । ४ प्रत्युपण,
प्रतिपादन (उवा, वव ३) । °खेवणी ली
[°क्षेपर्णी] कथा का एक भेद (ठा ४, २) ।
°पक्खेवणी ली [°प्रक्षेपर्णी] कथा का एक
भेद (राज) ।

पण्णपण्णिण्य पु [पण्णपर्णि] व्यन्तर देवी
की एक जाति (इक) ।

पण्णय देखो पण्णाग (से ४, ४) ।

पण्णव सक [प्र + ज्ञापय] प्ररूपण करना,
उपदेश करना, प्रतिपादन करना । पएणुवेह,
पएणुवेंति (उवा, भग) । वक्क, पण्णवयत
पण्णवेमाण (भग, पि ५५१) । क्क पण्ण-
वणिज्ज (द्र ७) ।

पण्णवग वि [प्रज्ञापक] प्ररूपक, प्रतिपादक
(विसे ५४६) ।

पण्णवग न [प्रज्ञापन] १ प्ररूपण, प्रति-
पादन । २ शास्त्र, सिद्धान्त (विसे ८६४) ।

पण्णवण वि [प्रज्ञापन] ज्ञापक, निरूपक
(सवोव ५) ।

पण्णवणा ली [प्रज्ञापना] १ प्ररूपण, प्रति-
पादन (आया १, ६, उवा) । २ एक जैन
आगम त्रय, 'प्रज्ञापना' सूत्र (भग) ।

पण्णवणिज्ज देखो पण्णव ।

पण्णवणी ली [प्रज्ञापनी] भाषा विशेष, श्रय-
वोधक भाषा (भग १०, ३) ।

पण्णवण्ण लीन [दे, पञ्चपञ्चाशत्] पच-
पन, पचास और पाच (दे ६, २७, पड्) ।

पण्णवय देखो पण्णवग (विसे ५४७) ।

पण्णवयत देखो पण्णव ।

पण्णविय वि [प्रज्ञापित] प्रतिपादित, प्ररू-
पित (अणु, उत्त २६) ।

पण्णवेत्तु वि [प्रज्ञापयित्ठ] प्रतिपादन, प्ररू-
पण करनेवाला (ठा ७) ।

पण्णवेमाण देखो पण्णव ।

पण्णा सक [प्र + ज्ञा] १ प्रवर्ष ने जानना ।
२ अच्छी तरह जानना । धम्मं पएणायति
(भग) ।

पण्णा देवी पण्ण (दे) ।

पण्णा ली 'प्रज्ञा' मनुष्य की दस अवस्थाओं
में पाँचवी अवस्था (तडु १६) ।

पण्णा ली [प्रज्ञा] १ बुद्धि, मति (उा ११४,
७२८ टी; निवू १) । २ ज्ञान (सूत्र १,

पडिपाहुड न [प्रतिप्राभृत] बदले की भेंट (सुपा १४५)।

पडिपिडिअ वि [दि] प्रवृद्ध, बडा हुआ (दे ६, ३४)।

पडिपिल्ल सक [प्रति + क्षिप्, प्रतिप्र + ईरय्] प्रेरणा करना। पडिपिल्लइ (भवि)। पडिपिल्लण न [प्रतिप्रेरण] ? प्रेरणा (सुर १५, १४१)। २ ढकन, पिघान। ३ वि. प्रेरणा करनेवाला 'दीवसिहापडिपिल्लणमल्ले मिल्लति नीसासे' (कुप्र १३१)।

पडिपिहा देखो पडिपेहा। सक पडिपिहिच्चा (पि ५८२)।

पडिपीलण न [प्रतिपीडन] विशेष पीडन, श्रविक दवाव (गड)।

पडिपुच्छ सक [प्रति + प्रच्छ्] ? प्रच्छा करना, पूछना। २ फिर से पूछना। ३ प्रश्न का जवाब देना। पडिपुच्छइ (उव)। वक्क. पडिपुच्छमाण (कप्य)। कू पडिपुच्छ-णिज्ज, पडिपुच्छणीय (उवा, णाया १, १, राध)।

पडिपुच्छण न [प्रतिप्रच्छन] नीचे देखो (भा, उवा)।

पडिपुच्छणया } छो [प्रतिप्रच्छना] ?
पडिपुच्छणा } पूछना, प्रच्छा। २ फिर से प्रच्छा (उत्त २६, २०, श्रौप)। ३ उत्तर, प्रश्न का जवाब (बृह ४, उप पृ ३६८)।

पडिपुच्छणज्ज } देखो पडिपुच्छ।
पडिपुच्छणीय }

पडिपुच्छा छो [प्रतिपृच्छा] देखो पडिपुच्छणा (पचा २, वव २, बृह १)।

पडिपुच्छिअ वि [प्रतिपृष्ट] जिसमे प्रश्न किया गया हो वह (गा २८६)।

पडिपुज्जिय वि [प्रतिपूजित] पूजित, श्रवित, 'यदणवरनणगवल्लमसुविणिग्गिम्मिअपडिपुजि (? पुजिज, पूइ) यनरमपजममोहतदारमाए' (साया १, १—पत्र १२)।

पडिपुण देखो पडिपुण (उवा, पि २१८)।

पडिपुत्त पुं. [प्रतिपुत्र] प्रपुत्र, पुत्र का पुत्र, पोता, 'अकनिवेसियनियनियपुत्तयपडिपुत्तनत्त-पुत्तिय' (सुपा ६)। देखो पडिपोत्तय।

पडिपुत्त वि [प्रतिपूर्णा] परिपूर्ण, सपूर्ण (पारा १, १, सुर ३, १८, ११५)।

पडिपूइय देखो पडिपुज्जिय (राज)।

पडिपूयग } वि [प्रतिपूज्ज] पूजा करने-
पडिपूयय } वाला (राज, सम ५१)।

पडिपूयय वि [प्रतिपूजक] प्रथुपकार-कर्ता (उत्त १७, ५)।

पडिपूरिय वि [प्रतिपूरित] पूर्ण किया हुआ (पत्तम १००, ५०, ११५, ७)।

पडिपेण्ण देखो पडिपिण्ण (गड, से ६, ३२)।

पडिपेण्ण न [प्रतिप्रेरण] देखो पडिपिण्ण (से २, २४)।

पडिपेण्णिय वि [प्रतिप्रेरित] प्रेरित, जिसको, प्रेरणा की गई हो वह (सुर १५, १८०, महा)।

पडिपेहा सक [प्रतिपि + धा] ढकना, आच्छादन करना। सक. पडिपेहिच्चा (सूत्र ३, २, ५१)।

पडिपोत्तय पु [प्रतिपुत्रक] नप्ता, कन्या का पुत्र, लडकी का लडका, नाती (सुपा १६२)। देखो पडिपुत्तय।

पडिप्पह देखो पडिपह (उप ७२८ टी)।

पडिप्फद्धि वि [प्रतिस्पर्धिन] स्पर्धा करने-वाला (हे १, ४४, २, ५३, प्राप्र, ससि १६)।

पडिप्फलणा छो [प्रतिफलना] ? स्वलना। २ सक्रमण, 'पडिसहपडिप्फलणावजिरनीसे-ससुरघट' (सुपा ८७)।

पडिप्फलिअ } वि [प्रतिफलित] ? प्रति-
पडिप्फलिअ } विम्बित, सक्रान्त (से १५, ३१, दे १, २७)। २ स्वलित (पाप्र)।

पडिबध सक [प्रति + बन्ध्] रोकना, अटकाना। पडिबधइ (पि ५१३)। कू पडिबधेयन्त्र (वसु)।

पडिबध सक [प्रति + बन्ध्] ? वेष्टन करना। २ सेकना। पडिबधइ, पडिबधति (सूत्र १, ३, २, १०)।

पडिबध पु [प्रतिबन्ध] व्याप्त, नियम (धर्मस १११)।

पडिबध पु [प्रतिबन्ध] ? रोकना (उवा, कप्य)। २ विघ्न, अन्तराय (उप ८८७)। ३ अत्यादर, बहुमान (उप ७७६, उवर १४६)। ४ स्नेह, प्रीति, राग (ठा ६, पचा १७)। ५ भासक्ति, अभिन्वग (साया १, ५, कप्य)। ६ वेष्टन (सूत्र १, ३, २)।

पडिबधअ } वि [प्रतिबन्धक] प्रतिबन्ध
पडिबधग } करनेवाला, रोकनेवाला (अभि २५३, उप ६४५)।

पडिबधण न [प्रतिबन्धन] प्रतिबन्ध, रोकना (पि २१८)।

पडिबधेयन्त्र देखो पडिबध = प्रति + बन्ध्।

पडिबद्ध वि [प्रतिबद्ध] ? रोकना हुआ, सद्ध, 'वायुरिव अप्पडिबद्धे' (कप्य, परह १, ३)। २ उपजनित, उत्पादित (गड १८२)। ३ ससक्त, सबद्ध, सलग्न, 'सरिआए तरणियपकवडलपडिबद्धवालुयामसिणा

पुणियणित्थारा' (गड, कुप्र ११५, उवा)। ४ सामने बंधा हुआ, 'पडिबद्ध नवर तुमे नदिचक्क पयाववियडपि' (गड)। ५ व्यवस्थित (पचा १३)। ६ वेष्टित (गड)। ७ समीप में स्थित, 'तं चेव य सागरिय जत्स अदूरे स पडिबद्धे' (बृह १)।

पडिबद्ध वि [प्रतिबद्ध] नियत, व्याप्त (पचा ७, २)।

पडिबाह सक [प्रति + बाध्] रोकना। हेह. पडिबाहिदु (शौ) (नाट—महावी ६६)।

पडिबाहिर वि [प्रतिबाह्य] अनधिकारी, अयोग्य (सम ५०)।

पडिबिब न [प्रतिबिम्ब] ? परछाही, प्रतिच्छाया (सुपा २६६)। २ प्रतिमा, प्रतिमूर्ति (पाप्र, प्रामा)।

पडिबिबिअ वि [प्रतिबिम्बित] जिसका प्रतिबिम्ब पडा हो वह (कुमा)।

पडिबुज्जअक अक [प्रति + बुध्] ? बोध पाना। २ जागृत होना। पडिबुज्जइ (उवा)। वक्क पडिबुज्जमत, पडिबुज्जमाण (कप्य)।

पडिबुज्जणया } छो [प्रतिबोधना] ? बोध,
पडिबुज्जणा } समक। २ जागृति (स १५६, श्रौप)।

पडिबुद्ध वि [प्रतिबुद्ध] ? बोध-प्राप्त (प्रासू १३५, उव)। २ जागृत (साया १, १)। ३ न प्रतिबोध (आचा)। ४ पु एक राजा का नाम (साया १, ८)।

पडिबूहणया छो [प्रतिबूहणा] उपचय, पुष्टि (सूत्र २, २, ८)।

पडिबोव देखो पडिबोह = प्रतिबोध (नाट—मालती ५६)।

न१, सुपा १२६, भग १४, १, पात्र) । २ समर्थ (जीवस २८५) ।

पत्तट्ट वि [दे] सुन्दर, मनोहर (दे ६, ६८) ।

पत्तण देखो पट्टण (राज) ।

पत्तण न [दे. पत्त्रण] १ इयु फलक, वाण का फलक । २ पुख, वाण का मूल भाग (दे ६, ६४, गा १०००) ।

पत्तणा स्त्री [दे पत्त्रणा] १—२ ऊपर देखो (गजड, से १५, ७३) । ३ पुख में की जाती रचना-विशेष (से ७, ५२) ।

पत्तणा स्त्री [प्रापणा] प्राप्ति (पञ्च ४) ।

पत्तपसाइआ स्त्री [दे] पत्तियों की एक की पगडी, जिसे भील लोग पहनते हैं (दे ६, २) ।

पत्तपिसालस न [दे] ऊपर देखो (दे ६, २) ।

पत्तय न [पत्रक] एक प्रकार का गेय (ठा ४, ४) ।

पत्तय देखो पत्त (महा) ।

पत्तरक न [दे. प्रतरक] आभूषण-विशेष (पण्ह २, ५—पत्र १४६) ।

पत्तल वि [दे] १ तीक्ष्ण, तेज (दे ६, १४), 'नयणाईं समाखियपत्तलाइ

परपुरिसजीवहरणाइ ।

असियसियाइ व मुद्धे खग्गा

इव कं न मारति ?

(वज्जा ६०) । २ पतला, कृश (दे ६, १४, वज्जा ४६) ।

पत्तल वि [पत्रल] १ पत्र समूह, बहुत पत्ती-वाला (पात्र, से १, ६२, गा ५३२, ६३५, दे ६, १४) । २ पक्षमवाला (श्रीप, जं २) ।

पत्तल न [पत्र] पत्ती, पणं (हे २, १७३, प्रामा, सण, हे ४, ३८७) ।

पत्तलण न [पत्रलण] पत्र-समूह होना, पत्र-बहुल होना, 'वाजलिआपरिसोसणकुडगपत्तलणसुलहसंकेअ' (गा ६२६) ।

पत्तली स्त्री [दे] कर-विशेष, एक प्रकार का राज-देय, 'गिएहह त्हेसपत्तलि क्कति' (सुपा ४६३) ।

पत्तहारय वि [पत्रहारक] पत्ती को बेचने का काम करनेवाला (पण्ह १४६) ।

पत्ताण सक [दे] पताना, मिटाना, 'पुच्छड अन्नु कोवि जो जाणइ सो तुम्हह त्रिवाठ पत्ताणइ' (अवि), पत्ताणहि (अवि) ।

पत्तामोड पुन [आमोटपत्र] तोडा हुआ पत्र, 'दब्भे य कुमे य पत्तामोड च गेएहइ' (अत ११) ।

पत्ति स्त्री [प्राप्ति] लाभ (दे १, ४२, उप २२६, चैइय ८६४) ।

पत्ति पुं [पत्ति] १ सेना-विशेष, जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पाँच पैदल हो । २ पैदल चलनेवाली सेना (उप ७२८ टी) ।

पत्ति सक [प्रति + इ] १ जानना । २ पत्तिअ विश्वास करना । ३ आश्रय करना ।

पत्तिअइ, पत्तियति, पत्तिअसि, पत्तिअमि (से १३, ४४, पि ४८७, से ११, ६०, भग) । पत्तिएजा, पत्तिअ, पत्तिहि, पत्तिसु (राय, गा २१६, ६६६, पि ४८७) । वक्. पत्तिअत, पत्तियमाण (गा २१६, ६७८, आना २, २, १०) । सक्क पडियच्च, पत्तियाइत्ता (सुअ १, ६, २७, उत्त २६, १) ।

पत्तिअ वि [पत्रित] सजात-पत्र, जिसमें पत्र उत्पन्न हुए हो वह (खाया १, ७, ११—पत्र १७१) ।

पत्तिअ वि [प्रतीति, प्रत्ययित] प्रतीति-वाला, विश्वस्त (ठा ६—पत्र ३५५, कप, कस) ।

पत्तिअ न [प्रीतिक] प्रीति, स्नेह (ठा ४, ३, ठा ६—पत्र ३५५) ।

पत्तिअ पुं [प्रत्यय] प्रत्यय, विश्वास (ठा ४, ३—पत्र २३५, धर्म २) ।

पत्तिअ न [पत्रिक] मरकत पत्र (कप) ।

पत्तिआ स्त्री [पत्रिका] पत्र, पणं, पत्ती (कुमा) ।

पत्तिआअ देखो पत्तिअ = प्रति + इ । पत्तिआअइ (प्राक् ७५), पत्तिआअति (पि ४८७) ।

पत्तिआय सक [प्रति + आयाय] विश्वास कराना, प्रतीति कराना । पत्तिआवेइ (आस २३) ।

पत्तिग देखो पत्तिअ = प्रीतिक (पचा ७, १०) ।

पत्तिज्ज देखो पत्तिअ = प्रति + इ । पत्तिज्जि, पत्तिज्जामि (पि ४८७) ।

पत्तिज्जाव देखो पत्तिआव । पत्तिज्जावइ (सुपा ३०२) । पत्तिज्जावेमि (धर्मवि १३४) । पत्तिसमिद्ध वि [दे] तीक्ष्ण (दे ६, १४) ।

पत्ती स्त्री [दे] पत्ती की वनी हुई एक तरह की पगडी जिसे भील लोग सिर पर पहनते हैं (दे ६, २) ।

पत्ती स्त्री [पत्ती] स्त्री, भार्या (उप पृ १६३, आप ६६, महा, पात्र) ।

पत्ती स्त्री [पात्री] भाजन, पात्र (उप ६२२, महा, धर्मवि १२६) ।

पत्तु देखो पाच = प्र + आप् ।

पत्तुवगद (शौ) वि [प्रत्युपगत] १ सामने गया हुआ । २ वापस गया हुआ (नाट—विक २३) ।

पत्तेअ } न [प्रत्येक] १ हरएक, एक एक पत्तेग } (हे २, १०, कुमा, निचू १, पि ३४६) । २ एक की तरफ, एक के सामने, 'पत्तेय पत्तेय वणसडपरिक्खितामो' (जीव ३) ।

३ न कर्म-विशेष, जिसके उदय से एक जीव का एक अलग शरीर होता है, 'पत्तेयतणू 'पत्तेउदण' (कम्म १, ५०) । ४ प्रयक्, प्रयक्, अलग अलग (कम्म १, ५०) । ५ पुं वह जीव जिसका शरीर अलग हो, एक स्वतंत्र शरीरवाला जीव, 'साहारणपत्तेआ वणसड-जीवा दुहा सुए मणिया' (जी ८) । ६ नाम न [नामन्] देखो ऊपर का तीसरा अर्थ (राज) । ७ निगोयय पुं [निगोदक] जीव-विशेष (कम्म ४, ८२) । ८ बुद्ध पुं [बुद्ध] अनित्यतादि भावना के कारणभूत किसी एक वस्तु से परमार्थ का ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ हो ऐसा जैन मुनि (महा, नच ४३) । ९ बुद्धसिद्ध पुं [बुद्धसिद्ध] प्रत्येक बुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त जैन (धर्म २) । १० रस वि [रस] विभिन्न रसनाला (ठा ४, ४) । ११ सरीर वि [शरीर] १ निम्न शरीरवाला, 'पत्तेयसरीराणं तह णंति सरीर-संघाया' (पच ३) । २ न. धर्म विशेष, जिसके उदय से एक जीव का एक निम्न शरीर

कतो पुणणेहि विणा,
वेसा पडियव्व सपडद,
(वजा ११६)।

पडियाङ्कल सक [प्रत्या + ख्या] त्याग
करता। पडियाङ्कले (पि १६६)।

पडियाङ्किलय वि [प्रत्याख्यात] त्यक्त,
परित्यक्त, छोटा हुआ, (ठा २, १, भग, उवा
कस, विपा १, १, श्रौप)।

पडियाणय न [दे पर्याणरु] पर्याण के
नोचे दिया जाता चर्म आदि का एक उपकरण
(साया १, १७—पन २३०)।

पडियाणद पु [प्रत्यानन्द] विशेष आनन्द,
प्रभूत आह्लाद, बहुत आनद (श्रौप)।

पडियाणय न [दे पडतानक, पर्याणरु]
पर्याण के नोचे रखा जाता वस्त्र आदि का
एक घुबसवारी का उपकरण (साया १,
१७—पन २३२ टी)।

पडियारणा श्री [प्रतिवारणा] निषेध (पचा
१७, ३४)।

पडियासुर अक [दे] चिडना, गुस्ता होना।
रु 'पडियासुरेयव्व न कयाइवि पाण-
चाएवि' (भाक २५, १४)।

पडिर वि [पतिवृ] गिरनेवाला (कुमा)।

पांडरअ देको पडिरअ (गा ५५ अ, से ७,
१६)।

पडिरजिअ वि [दे] भग्न, टूटा हुआ (दे
६, ३२)।

पडिरक्खिय वि [प्रतिरक्षित] जिसकी रक्षा
को गद्दे हो वह (पवि)।

पडिरव पु [प्रतिरव] प्रतिशब्द, प्रतिशब्द
(गजड, गा ५५, सुर १, २४४)।

पडिराय पु [प्रतिराग] लाली, रक्तमन,
'उन्नह्य दडयगहिपाहरोट्टुकिञ्जतरोसपडिराय।
पाणोमरतमडर व फलिहचमय इमा वयण'
(गजड)।

पडिरगगअ [दे] देको पडिरजिअ (पड्)।

पडिरु थक [प्रति + रु] प्रतिश्वनि करना,
प्रतिशब्द करना। वरु पडिरुअ (ने १२,
६, पि ४७३)।

पडिरुथ } मक [प्रति + रुथ] ? रोचना,
पडिरुअ } अटवना। २ व्याप्ते करना। पडि-

रुमइ (से ८, ३६)। वरु. पडिरुथत (से
११, ५)।

पडिरुद्ध वि [प्रतिरुद्ध] रोका हुआ, अटकाया
हुआ (सुपा ८५, वजा ५०)।

पडिरुअ } वि [प्रतिरूप] १ रम्य, सुन्दर,
पडिरुअ } चाह, मनोहृष्ट (सम १३७, उवा,
श्रौप)। २ रूपवान्, प्रशस्त रूपवाला, श्रेष्ठ
श्राकृतिवाला (श्रौप)। ३ असाधारण रूपवाला।
४ भूतन रूपवाला (जीव ३)। ५ योग्य,
उचित (स ८७, भग १५, वस ६, १)।
६ सहश, समान (साया १, १—पत्र ६१)।
७ समान रूपवाला, सहश आकारवाला (उत्त
२६, ४२)। ८ न प्रतिबिम्ब, प्रतिभूति,
'कइयावि चित्तफलए कइया वि पडम्मि तस्स
पडिरुव्व लिहियण' (सुर ११, २३८, राय)।
९ समान रूप, समान आकृति, 'तुम्हपडिरुव्व-
धारि पासइ विज्जाहरसुदाढ' (सुपा २६८)।
१० पु इन्द्र-विशेष, भूत-निकाय का उत्तर
विशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। ११
विनय का एक भेद (वव १)।

पडिरुव्वसि वि [प्रतिरूपिन्] रमणीय,
सुन्दर (आवा २, ४, २, १)।

पडिरुव्वग पुन [प्रतिरूपक] प्रतिबिम्ब,
प्रतिमा; 'तिरिसि पडिरुव्वग य देवकया' (प्राव,
वृह)।

पडिरुव्वणया श्री [प्रतिरूपणता] १ समा-
नता, सहशता या साहस्य। २ समान वेष-
धारण (उत्त २६, १)।

पडिरुवा श्री [प्रतिरूपा] एक कुलकर पुरुष
की पत्नी का नाम (सम १५०)।

पडिरोव पु [प्रतिरोप] पुनरावेषण (कुम
५५)।

पडिरोह पु [प्रतिरोध] रुकावट (गजड,
गा ७२४)।

पडिरोहि वि [प्रतिरोधिन्] रोकनेवाला
(गजड)।

पडिलभ सक [प्रति + लभ्] प्राप्त करना।
सह पडिलभिय (सुम १, १३)।

पडिलंभ पु [प्रतिलम्भ] प्राप्ति, लाभ (सूप
३, ५)।

पडिलग्ग वि [प्रतिलग्न] लगा हुआ, सम्बद्ध
(से ६, ८६)।

पडिलग्गल न [दे] बल्मीक, कीट-विशेष-कृत
मृत्तिका-स्तूप (दे ६, ३३)।

पडिलभ सक [प्रति + लभ्] प्राप्त करना।
पडिलभेज (उत्त १, ७)। सह. पडिलव्वभ
(सूप १, १३, २)।

पडिलभ } सक [प्रति + लभ्य, लम्भ्य]
पडिलाह } साधु आदि को दान देना। पडि-
लाहेज्जह (काल)। वरु पडिलभेमाण
(साया १, ५, भग, उवा)। सह पडिला-
भित्ता (भग ८, ५)।

पडिलाहण न [प्रतिलाभन] दान देना
(रंभा)।

पडिलिहिय वि [प्रतिलिखिन्] लिखा हुआ,
'सम्म मतं दुवारि पडिलिहिय' (ति १४)।

पडिलीण वि [प्रतिलीन] अत्यन्त लीन
(वर्मवि ५३)।

पडिलोह सक [प्रति + लोख्य] १ निरीक्षण
करना; देखना। २ विचार करना। पडिलोहेइ
उव, कस, भग), 'एतेसु जाणे पडिलोह सार्य,
एतेण काएण य आयदडे' (सुम १, ७, २)।
सह भूएहि जाणं पडिलोह साय' (सुम १,
७, १६), पडिलोहित्ता (भग)। हेइ पडि-
लोहित्तए, पडिलोहेत्तए (कप्प)। क. पडि-
लोहियव्व (श्रोध ४, कप्प)।

पडिलोह पु [प्रतिलोख] देखो पडिलोहा
(वेइय, २६६)।

पडिलोहग देको पडिलोहय (राज)।

पडिलोहण न [प्रतिलोखन] निरीक्षण (श्रोध
३ भा, अत्त)।

पडिलोहणया देको पडिलोहणा (उत्त २६,
१)।

पडिलोहणा श्री [प्रतिलोखना] निरीक्षण,
निरूपण (अम)।

पडिलोहणी श्री [प्रतिलोखनी] साधु का एक
उपकरण, 'पुजणी' (पत्र ६१)।

पडिलोहय वि [प्रतिलोखक] निरीक्षण,
देखनेवाला (श्रोध ४)।

पडिलोहा श्री [प्रतिलोखा] निरीक्षण, अन्-
लोकन (श्रोध ३, ठा ५, ३, कप्प)।

पडिलोहि वि [प्रतिलिखिन्] निरीक्षण
(सुम १, ३, ३, ५)।

पत्थोड वि [प्रस्तोत्] ? प्रस्ताव करनेवाला ।
२ प्रवर्तक । श्री 'त्थोर्ड' (पएह १, ३—
पत्र ४२) ।

पथम (वे) देखो पढम (पि १६०) ।

पद् देखो पय = पद (भग, स्वप्न १५, हे ४,
२७०, पएह २, १, नाट—शकु ८१) ।

पद्अ सक [गम्] जाना, गमन करना ।
पद्अइ (हि ४, १६२) । पद्अति (कुमा) ।

पदसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुआ,
वतलाया हुआ (शा ३०) ।

पदक्खिण वि [प्रदक्षिण] ? जिसने दक्षिण
की तरफ से लेकर मण्डलाकार भ्रमण किया
हो वह । २ न. दक्षिणावर्त्त भ्रमण, 'पदक्खि-
णीकरअतो भट्टार' (प्रयो ३५) । देखो
पदाहिण ।

पदक्खिण सक [प्रदक्षिणय्] प्रदक्षिणा
करना, दक्षिण से लेकर मण्डलाकार भ्रमण
करना । हेऊ. पदक्खिणोड (पउम ४८,
१११) ।

पदक्खिणा श्री [प्रदक्षिणा] दक्षिण की
ओर से मण्डलाकार भ्रमण (नाट—चैत
३८) ।

पदण न [पदन] प्रत्यायन, प्रतीति कराना
(उप ८८३) ।

पदण (श्री) न [पतन] गिरना (नाट—
मालती ३७) ।

पदम (श्री) देखो पउम (नाट—मूच्छ १३६) ।

पदय देखो पयय = पदय, पदक, पतग, पतंग
(इक) ।

पदरिसिय देखो पदसिअ (भवि) ।

पदहण न [प्रदहन] संताप, गरमी (कुमा) ।

पदाइ वि [प्रदायिन्] देनेवाला (नाट—
विक्र ८) ।

पदाण न [प्रदान] दान, वितरण (भोप,
भमि ४५) ।

पदादि (श्री) पु [पदाति] पैदल चलनेवाला
सैनिक (प्रयो १७, नाट—वेणी ६६) ।

पदायग वि [प्रदायक] देनेवाला (विले
३२००) ।

पदान देनो पयाव (गा ३२६) ।

पदाहिण वि [प्रदक्षिण] प्रकृष्ट दक्षिण,
प्रकर्ष से दक्षिण दिशा में स्थित (जीव ३) ।
देखो पदक्खिण ।

पदिकिदि (श्री) देखो पडिकिदि (मा १०,
नाट—विक्र २१) ।

पदित्त देखो पडित्त (राज) ।

पदिसं श्री [प्रदिश] विदिशा, ईशान आदि
कोण, 'तसति पाणा पदिसो विसासु य'
(आचा) ।

पदिस्सा देखो पदेक्ख ।

पदीव सक [प्र + दीपय] ? जलाना । २
प्रकाश करना । पदीवेसि (पि २४४) । वहु
पदीवेत्त (पउम १०२, १०) ।

पदीव देखो पईव = प्रदीप (नाट—मूच्छ
३०) ।

पदीविआ श्री [प्रदीपिका] छोटा दिया
(नाट—मूच्छ ५१) ।

पदुग्ग पुन [प्रदुग्] कोट, किला (आचा,
२, १०, २) ।

पदुड वि [प्रदुष्ट, प्रदुष्ट] विशेष द्वेष को
प्राप्त (उत्त ३२, बह ३) ।

पदुब्भेइय न [पदोब्भेदक] पद-विभाग और
शब्दार्थ मान का पारामण (राज) ।

पदूमिय वि [प्रदावित, प्रदून] अत्यन्त
पीडित (बह ३) ।

पदूस सक [प्र + द्विप्] द्वेष करना ।
पदूसति (पचा २, ३५) ।

पदूसणया श्री [प्रद्वेषणा, प्रदूपणा] द्वेष,
मात्सर्य (उप ४८६) ।

पदेक्ख सक [प्र + इश्] प्रकर्ष से देखना ।
पदेक्खइ (भवि) । संक 'पदिस्सा य हिस्सा
वयमाणा' (भग १८, ८, पि ३३४) ।

पदेस देखो पएस = प्रदेश (भग) ।

पदेस पु [प्रद्वेष] द्वेष (धर्मस ६७) ।

पदेसिअ वि [प्रदेशित] प्ररपित, प्रतिपादित
(आचा) ।

पदोस देखो पओस = दे, प्रदोप (धंत १३,
निष् १) ।

पदोस देखो पओस = प्रदोप (राज) ।

पद् न [डे] ? ग्राम-स्थान (दे ६, १) । ०
छोटा गाँव (पाप) ।

पद् न [पद्य] रत्नोक, वृत्त, काव्य (प्राकृ
२१) ।

पदेस देखो पदेस = प्रदेश (सूत्र १, १६, ३) ।

पदइ श्री [पदति] ? मार्ग, रास्ता (सुपा
१८६) । २ पक्ति, श्रेणी (ठा २, ४) । ३
परिपाटी, क्रम (भावम) । ४ प्रक्रिया, प्रकरण
(वजा २) ।

पदंस पुं [प्रवंस] ध्वंस, नाश । 'भाव पु
[भाव] अभाव-विशेष, वस्तु के नाश होने
पर उसका जो अभाव होता है वह (विवे
१८३७) ।

पदर नि [डे] ऋजु, सरल, सीधा (दे ६,
१०) । २ शीघ्र, गुजराती में 'पावत', 'पदर-
पएहि सुइहे पचारेइ' (सिदि ४३५) ।

पदल वि [दे] दोनों पारश्वों में अग्रवृत्त
(पद्) ।

पदर नि [दे] जिसका पूँछ कट गया हो वह,
पूँछ कटा (दे ६, १३) ।

पधाइय देखो पधाविय (भवि) ।

पधाण देखो पहाण (नाट—मूच्छ २०५) ।

पधार देखो पहार = प्र + धारय् । भूवा-
पधारत्य (भोप, शाया १, २—पत्र ८८) ।

पधाव सक [प्र + धाव्] दौडना, धावित
वेग से जाना । सक. पधाविअ (नाट) ।

पधावण न [प्रधावन] ? दाह, वेग से
गमन । २ कार्य की शीघ्र सिद्धि (धा १) ।
३ प्रदालन (धर्मसं १०७८) ।

पधाविअ वि [प्रधावित] ? दौडा हुआ
(महा, पएह १, ४) । २ गति-रहित (राज) ।

पधाविर नि [प्रधावित्] दौडनेवाला (पा
२८) ।

पधूवण न [प्रधूपन] ? धूप देना । २ एह
प्रकार का घालेपन द्रव्य (फस) ।

पधूविय वि [प्रधूपित] जिसको धूप दिया
गया हो वह (राज) ।

पधोअ सक [प्र + धान्] धोना । संट
पधोइत्ता (भावा २, १, ६, ३) ।

पधोअ वि [प्रधीव] धोया हुआ (भोप) ।

पधोय मत्त [प्र + धाव्] धोना । पधोयि
(पि ८८०) ।

पडिवाइ वि [प्रतिवादिन्] प्रतिवाद करने-
वाला, वादी का विपक्षी (भवि ५१, ३)।

पडिवाइ वि [प्रतिपादिन्] प्रतिपादन करने-
वाला (भवि ५१, ३)।

पडिवाइ वि [प्रतिपातिन्] १ विनश्चर, नष्ट
होने के स्वभाववाला (ठा २, १, ओष
५३२, उप पु ३५८)। २ अवधिज्ञान का
एक भेद, भूक से दीपक के प्रकाश के समान
एकाएक नष्ट होनेवाला अवधिज्ञान (ठा ६,
कम्म १, ८)।

पडिवाइअ वि [प्रतिपातित] १ फिर से
गिराया हुआ। २ नष्ट किया हुआ (भवि)।

पडिवाइअ वि [प्रतिपादित] जिसका प्रति-
पादन किया हो वह, निरूपित (अच्छु ५,
स ४६, ५४३)।

पडिवाइअ वि [प्रतिवाचित] १ लिखने के
वाद पढ़ा हुआ। २ फिर से बर्बा हुआ
(कुप्र १६७)।

पडिवाइऊण } देखो पडिवाय = प्रति +
पडिवाइयञ्च } वाचय्।

पडिवाइय देखो पडिवाइ = प्रतिपातिन् (एदि
८१)।

पडिवाडि देखो परिवाडि (गा ५३०)।

पडिमाट (शो) सक [प्रति + पाठय्]।
प्रतिपादन करना निरूपण करना। पडिवादिदि
(नाट—रत्ना ५७)। कृ पडिवादिण्डज्ज
(अभि ११७)।

पडिमाटय वि [प्रतिपादक] प्रतिपादन
करनेवाला। स्त्री दिआ (नाट—वैत ३४)।

पडिमाय नक [प्रति + वाचय्] १ लिखने
के बाद उसे पढ़ लेना। २ फिर से पढ़ लेना।
संठ पटिमाइऊण (कुप्र १६७)। कृ
पटिमाइयञ्च (कुप्र १६७)।

पडिमाय सक [प्रति + पाठय्] प्रतिपादन
करना, निरूपण करना। पडिवाययति (सूत्र
१, ४, २६)।

पडिमाय पु [प्रतिपात] १ पुन-पतन, फिर
से गिरना (नम ३६)। २ नाश, ध्वन
(विने ५८७)।

पडिमाय पु [प्रतिपाद] विरोध (भवि)।

पडिमाय पु [प्रतिपात] प्रतिपन्न पवन
(पायम)।

पडिवायण न [प्रतिपादन] निरूपण (कुप्र
११६)।

पडिवायय देखो परिवार, पडिवायपरि-
ययिओ (महा)।

पडिवाल सक [प्रति + पालय्] १ प्रतीक्षा
करना, बाट जोहना। २ रक्षण करना।
पडिवालेइ (हे ४, २५६)। पडिवालेदु (शो),
(स्वप्न १००)। पडिवालह (अभि १८५)।
वक्क, पडिवालअत्त, पडिवाल्लेमाण (नाट-
रत्ना ४८, एया १, ३)।

पडिवालण न [प्रतिपालन] १ रक्षण। २
प्रतीक्षा, बाट (नाट—महा ११८, उप
६६६)।

पडिवाल्लिअ वि [प्रतिपालित] १ रक्षित।
२ प्रतीक्षित, जिसकी बाट देखी गई हो वह
(महा)।

पडिवास पुं [प्रतिवास] औषध आदि को
विशेष उत्कट बनानेवाला चूर्ण आदि (उर
८, ५, सुपा ६७)।

पडिवासर न [प्रतिवासर] प्रतिदिन, हर
रोज (गउड)।

पडिवासुदेव पु [प्रतिवासुदेव] वासुदेव का
प्रतिपक्षी राजा (पचम २०, २०२)।

पडिवाक्किण्ण सक [प्रतिवि + क्री] वेचना।
पडिवाक्किण्णइ (आक ३३, वि ५११)।

पडिवाक्ज्जा स्त्री [प्रतिविद्या] प्रतिपक्षी विद्या,
विरोधी विद्या (पिड ४६७)।

पडिवाक्थर पु [प्रतिविस्तर] परिकर, विस्तार
(सुप्र २, २, ६२ टी. राज)।

पडिवाक्खंसण न [प्रतिविध्यसन] विनाश,
ध्वंस (राज)।

पडिवाक्पिय न [प्रतिविप्रिय] अपकार का
बदला, बदले के रूप में किया जाता अनिष्ट
(महा)।

पडिवाक्खि स्त्री [प्रतिविरति] निवृत्ति (पएह
२, ३)।

पडिवाक्खिय वि [प्रतिविरत] निवृत्त (सम
५१, सूत्र २, २, ७५, औप, उव)।

पडिवाक्खज्ज सक [प्रतिवि + सर्वय्]
विसर्जन करना, विदा करना। पडिवाक्खजेह
(कप्प, औप)। भवि पडिवाक्खजेहि
(औप)।

पडिवाक्खिज्जिय वि [प्रतिविसर्जित] विदा
किया हुआ, विसर्जित (एया १, १—पत्र
३=)।

पडिवाक्खिहाग न [प्रतिविधान] प्रतीकार (स
५६७)।

पडिवाक्खिमाण देखो पडिवाह = प्रति + वह्।
पडिवाक्खित्त वि [प्रत्युक्त] १ जिसका उत्तर
दिया गया हो वह (अनु ३, उप ७२८ टी)।
२ न प्रत्युत्तर (उप ७२८ टी)।

पडिवाक्खिद (शौ) वि [प्रतिवृत्त] परिकरित
(अभि ५७, नाट—मृच्छ २०५)।

पडिवाक्खिद पु [प्रतिव्यूह] व्यूह का प्रतिपक्षी
व्यूह, सैन्य-रचना-विशेष (औप)।

पडिवाक्खिद वि [प्रतिवृहण] १ बढ़नेवाला
(आचा १, २, ५, ५)। २ न, वृद्धि, पुष्टि
(आचा १, २, ५, ४)।

पडिवाक्खिद पुं [दे] विक्षेप, फेंकना (दे ६, २१)।

पडिवाक्खिअ वि [प्रतिवेशिमक] पड़ोसी,
पड़ोस में रहनेवाला (दे ६, ३, सुपा ५५२)।
पडिवाक्खिद देखो पडिवाक्खिद (सण)।

पडिवाक्खिद स्त्री [प्रतिशङ्का] भय, शका
(पचम ६७, १५)।

पडिवाक्खिद सक [प्रतिस + ख्या] व्यवहार
करना, व्यपदेश करना। पडिवाक्खिद (आचा)।

पडिवाक्खिद सक [प्रतिस + क्षिप्] संक्षेप
करना। सक्क पडिवाक्खिविय (सग १४, ७)।

पडिवाक्खिद सक [प्रतिस + ज्ञेयप्] संकेलना,
समेटना। वक्क, पडिवाक्खिद्वेमाण
(राय ४२)।

पडिवाक्खिद सक [प्रतिसम् + ईक्ष्]।
चिन्तन करना। पडिवाक्खिद्वे (उत्त २, ३१)।

पडिवाक्खिद सक [प्रतिस + ज्वाल्य]।
उद्दीपित करना। पडिवाक्खिद्वेज्जामि (आचा)।

पडिवाक्खिद वि [परिशान्त] शान्त, उपशान्त
(से ६, ६१)।

पडिवाक्खिद वि [प्रतिश्रान्त] विश्रान्त (बृह १)।

पडिवाक्खिद वि [दे] १ प्रतिकूल। २ अस्तीमित,
धस्त-प्राप्त (दे ६, १६)।

पडिवाक्खिद } सक [प्रतिस + धा] १ फिर
पडिवाक्खिद } से सावना। २ उत्तर देना।

'इम भरिएण राअमी पफुल्लविलोअयाजाभा'
(काप्र १६१)।

पफुलिअ वि [प्रफुल्लित] ऊपर देखो (सम्मत्त
१८६, भवि)।

पफुलिआ जो [प्रफुल्लिका] देखो उफु-
लिआ (गा १६६ अ)।

पफुसिय न [प्रसृष्ट] उत्तम स्पर्श (राय
१८)।

पफोड देखो पफुट्ट। पफोडइ, फफोडए
(घात्वा १४३)।

पफोड सक [प्र + स्फोट्य] १ फाडना,
फाडकर गिराना। २ आस्फालन करना। ३
प्रक्षेपण करना। पफोडइ (गा ४३३)।
पफोडे (उत्त २६, २४) वक्क पफोडत,
पफोडयत, पफोडेमाण (गा १४५, पि
४६१, ठा ६)। सक्क 'पफोडेअण सेसम
कम्म' (आठ ६७)।

पफोडण न [प्रफोटन] १ फाडना, प्रकृष्ट
घुनन (शोध भा १६३)। २ आस्फोटन,
आस्फालन (परह २, ५—पत्र १४८, पिड
२६३)।

पफोडणा ली [प्रफोटना] ऊपर देखो
(शोध २६६, उत्त २६, २६)।

पफोडिअ वि [दे प्रस्फोटित] निर्यादित,
फाड कर गिराया हुआ (दे ६, २७, पाय),
'पफोडिअमोहजालस' (पिड)। २ फोडा
हुआ, तोडा हुआ, 'पफोडिअसउणिअडय व
ते हति निसारा' (सबोध १७)।

पफोडेमाण देखो पफोड = प्र + स्फोट्य।
पफुल्ल देखो पफुल्ल (पड)।

पफुलिअ देखो पफुलिअ (हे ४, ३६६,
पिग)।

पवध सक [प्र + वन्ध्] प्रबन्ध रूप से
कहना, विस्तार से कहना। पवधिआ (दस
५, २, ८)।

पवध पु [प्रबन्ध] १ सन्दर्भ, ग्रन्थ, परस्पर
अन्वित वाक्य-समूह (रभा ८)। २ अविच्छेद,
निरन्तरता (उत्त ११, ७)।

पवधण न [प्रबन्धन] प्रबन्ध, सन्दर्भ, अन्वित
वाक्य-समूह की रचना, 'कहाए य पवधणे'
(सम २१)।

पवल वि [प्रवल] बलिष्ठ, प्रचरड, प्रखर
(कुमा)।

पवाहा ली [प्रवाधा] प्रकृष्ट वाधा, विशेष
पीडा (आया १, ४)।

पवुद्ध वि [प्रवुद्ध] १ प्रवीण, निपुण (से
१२, ३४)। २ जगा हुआ (सुर ५, २२६)।
३ जिसने अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की हो
वह (आचा)।

पवोध सक [प्र + बोधय्] १ जागृत करना।
२ ज्ञान कराना। कम्म पवोधीमामि (पि
५४३)।

पवोधण न [प्रवोधन] प्रकृष्ट बोधन (राज)।
पवोह देखो पवोध। कृ पवोहर्णाय (पउम
७०, २८)।

पवोह पु [प्रवोव] १ जागरण। २ ज्ञान,
समझ (आह ५४, पि १६०)।

पवोहण देखो पवोधण (राज)।

पवोहय वि [प्रवोधक] प्रबोध कर्ता (विसे
१७३)।

पवोहिअ वि [प्रवोधित] १ जगाया हुआ।
२ जिसको ज्ञान न कराया गया हो वह (सुपा
३१३)।

पव्वल देखो पवल (से ४, २५, ६, ३३)।
पव्वाल देखो पव्वाल = छादय्। पव्वालइ
(हे ४, २१)।

पव्वाल देखो पव्वाल = प्लावय्। पव्वालइ
(हे ४, ४१)।

पव्वुद्ध देखो पवुद्ध (पि १६६)।

पव्वम वि [प्रह्व] नम्र (श्रौप, प्राक २४)।

पव्वट्ट } वि [प्रभ्रष्ट] १ परिभ्रष्ट,
पव्वसिअ } प्रस्तलित, चूका हुआ (परह
१, ३, अमि ११६, गा ३१८, सुर ३,
१२३, गा ३३, ६५)। २ विस्मृत (से १४,
४२)। ३ पु नरकावास विशेष (देवेन्द्र २८)।

पव्वमार पु [दे प्राग्मार] १ सघाल, समूह,
जत्था (दे ६, ६६, से ४, २०, सुर १,
२२३, कप्पू गउड, कुलक २१)।

पव्वमार पु [दे] गिरि-शुफा, पर्वत-कैदरा (दे
६, ६६), 'पव्वमारकवरगया साहवी अप्पणो
अट्ट' (पच्च ८१)।

पव्वमार-पु [प्राग्मार] १ प्रकृष्ट मार, 'कुमरे
सक्कामयरज्जपव्वमारो' (धम्म ८ टी)। २ ऊपर

का भाग (से ४, २०)। ३ थोडा नमा हुआ
पर्वत का भाग (आया १, १—पत्र ६३, अग
५, ७)। ४ एक देश, एक भाग (से १, ५८)। ५
उत्कर्ष, परभाग (गउड)। ६ पुन. पर्वत के
ऊपर का भाग (एदि)। ७ वि थोडा नमा
हुआ, ईपवनत (अत्त ११, ठा १०)।

पव्वमारा ली [प्राग्मार] दशा-विशेष, पुरुष
की सत्तर से अस्सी वर्ष तक की अवस्था (ठा
१०—पत्र ५१६, तट्टु १६)।

पव्वभूअ वि [प्रभूत] उत्पन्न, 'महुवकीए गम्भे,
पव्वभूओ वदुदुरतेण' (धम्मि ३५)।

पव्वभोअ पु [दे प्रभोग] भोग, विलास (दे
६, १०)।

पम पु [प्रभ] १ हरिकान्त नामक इन्द्र का
एक लोकपाल (ठा ४, १, इक)। २ द्वीप-
विशेष और समुद्र-विशेष का अधिपति देव
(राज)।

पम वि [प्रभ] सदृश, तुल्य (कम्म, उवा)।

पमइ देखो पमिइ, 'चडाए चडहएपमईण'
(अज्ज १४१)।

पमकर पु [प्रमक्कर] १ ग्रह विशेष, ज्योतिष-
देव-विशेष (ठा २, ६)। २ पुन. देव विमान
(सम ८, १४, पव २६७)।

पमंकर वि [प्रमाकर] प्रकाशक, 'सव्वलोय-
पमंकरो' (उत्त २३, ७६)।

पमंकरा ली [प्रमक्करा] १ विदेह-वर्ष की
एक नगरी का नाम (ठा २, ३)। २ चन्द्र
की एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १)।
३ सूर्य की एक अग्रमहिषी का नाम (अग
१०, ५)।

पमकरावई ली [प्रमक्करावती] विदेह वर्ष
की एक नगरी (आचू १)।

पमग्गुर वि [प्रमक्कुर] अति विनश्वर
(आचा)।

पमजण पु [प्रभज्जण] १ वायुकुमार-निकाय
के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३, ४, १,
सम ६६)। २ लवण-समुद्र के एक पाताल-
कलश का अधिष्ठापक देव (ठा ४, २)।
३ वायु, पवन (से १४, ६६)। ४ मानुषोत्तर
पर्वत के एक शिखर का अधिपति देव (राज)।
पणअ पु [तनय] हनुमान (से १४, ६६)।

पडिसिद्ध—पडिस्सुय

पडिसिद्ध वि [दे] १ भीत, डरा हुआ । २ भग्न, युद्धित (दे ६, ७१) ।

पडिसिद्ध वि [प्रतिपिद्ध] निषिद्ध, निवारित (पाय, उव, शोध १ टी, सण) ।

पडिसिद्धि लो [दे] प्रतिस्पर्धा (पड) ।

पडिसिद्धि लो [प्रतिसिद्धि] १ अनुष्ण सिद्धि । २ प्रतिकूल सिद्धि (हे १, ४४, पड) ।

पडिसिद्धि देहो पडिप्फद्धि (ससि १६) ।

पडिसिलो ग पु [प्रतिश्लोक] श्लोक के उत्तर में कहा गया श्लोक (सम्मत्त १४६) ।

पडिसिविणअ पु [प्रतिस्वप्नक] एक स्वप्न का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रतिकूल स्वप्न (कम्प) ।

पडिसीसअ } न [प्रतिशीर्षक] १ शिरो-
पडिसीसक } वेष्टन, पगढी (कम्प) । २ तिर के प्रतिरूप सिर, पिसान (आवा) आदि का बनाया हुआ सिर (पणह १, २—पत्र ३०) ।

पडिसुइ पु [प्रतिश्रुति] १ ऐरवत वर्ष के एक भावी कुलकर (सम १५३) । २ भरतसेन मे स्वप्न एक कुलकर पुरुष का नाम (पचम ३, ५०) ।

पडिसुण सक [प्रति + श्रु] १ प्रतिज्ञा करना । २ स्वीकार करना । पडिसुणह, पडिसुणेश (श्रीप, कम्प, उवा) । वहु पडिसुणमाण (वव १, पि ५०३) । सक पडिसुणित्ता, पडिसुणोत्ता (आव ४, कम्प) । हेह पडिसुणोत्तप (पि ५७८) ।

पडिसुणण न [प्रतिश्रवण] अगीकार (उप ४६३) ।

पडिसुणण लो न [प्रतिश्रवण] १ सुनाता, गुनर उमचा जवाब देना, प्रत्युत्तर (पव २) । लो णा (पव २) । २ श्रवण (पचा १२, १५) ।

पडिसुणणा लो [प्रतिश्रवण] १ अगीकार, न्योनार । २ मुनि मित्रा का एक दोष, मायातम-दोषवानी मित्रा साने पर उनका न्योनार आर अनुमोदन (धर्म ३) ।

पडिसुणण नि [प्रतिश्रुत्य] लालो, रिक्त, शून्य 'नय निनया नियर्थादनुएणा' (ठा १ टी—पत्र २६) ।

पडिसुणित्ति वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १८) ।

पडिसुद्ध वि [परिशुद्ध] अत्यन्त शुद्ध (विद्य ८०७) ।

पडिसुय वि [प्रतिश्रुत] १ स्वीकृत, अगीकृत (उप पृ १८४) । २ न अगीकार, स्वीकार (उत्त २६) । देहो पडिस्सुय ।

पडिसुया देहो पडिसुआ = प्रतिश्रुत (पणह १, १—पत्र १८) ।

पडिसुया लो [प्रतिश्रुता] प्रवज्या-विशेष, एक प्रकार की दीक्षा (ठा १० टी—पत्र ४७४) ।

पडिसुद्ध पृ [प्रतिसुभट] प्रतिपक्षी योद्धा (काल) ।

पडिसूयग धु [प्रतिसूचक] गुप्तचरो की एक श्रेणी, नगर-द्वार पर रहनेवाला जासूस (वव १) ।

पडिसूर वि [दे] प्रतिकूल (दे ६, १६, भवि) ।

पडिसूर पु [प्रतिसूर्य] सूर्य के सामने देखा जाता उत्पातादि-सूचक द्वितीय सूर्य (अणु १२०) ।

पडिसूर पुं [प्रतिसूर्य] इन्द्र-धनुष (राज) ।

पडिसेज्जा लो [प्रतिशय्या] शय्या-विशेष, उत्तर-शय्या (भग ११, ११, पि १०१) ।

पडिसेग पु [प्रतिपेक] नख के नीचे का भाग (राय ६४) ।

पडिसेव सक [प्रति + सेव] १ प्रतिकूल सेवा करना, निषिद्ध वस्तु की सेवा करना । २ सहन करना । ३ सेवा करना । पडिसेवह, पडिसेवण, पडिसेवति (कस, वव ३, उव) । वहु पडिसेवत, पडिसेवमाण (पचू ५, सम ३६, पि १७), 'पडिसेवमारो फहसाई अचले भगव रोहत्या' (आचा) । क पडिसेवियठ (वव १) ।

पडिसेवग देहो पडिसेवय (निचू १) ।

पडिसेवण न [प्रतिपेवण] निषिद्ध वस्तु का सेवन (कस) ।

पडिसेवणा लो [प्रतिपेवणा] ऊपर देखो (भग २५, ७, उव, श्रीप २) ।

पडिसेवय वि [प्रतिपेवक] प्रतिकूल सेवा करनेवाला, निषिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला (भग २५, ७) ।

पडिसेवा लो [प्रतिपेवा] १ निषिद्ध वस्तु का आसेवन (उप ८०१) । २ सेवा (कुप्र ५२) ।

पडिसेवि वि [प्रतिपेविन्] शास्त्र-प्रतिषिद्ध वस्तु का सेवन करनेवाला (उव, पचम ५, २८) ।

पडिसेविअ वि [प्रतिपेवित] जिस निषिद्ध वस्तु का आसेवन किया गया हो वह (कम्प, श्रीप) ।

पडिसेवेत्तु वि [प्रतिपेवित्] प्रतिषिद्ध वस्तु की सेवा करनेवाला (ठा ७) ।

पडिसेह सक [प्रति + सिध] निषेध करना, निवारण करना । क पडिसेहेअव्व (भग) ।

पडिसेह पुं [प्रतिपेव] निषेध, निवारण, रोक (श्रीप ६ भा, पंचा ६) ।

पडिसेहग वि [प्रतिपेधक] निषेध-कर्ता (धर्मस ४०, ६१२) ।

पडिसेहण न [प्रतिपेधन] ऊपर देखो (विसे २७५१, आ २७) ।

पडिसेहिय वि [प्रतिपेधित] जिसका प्रतिषेध किया गया हो वह, निवारित (विपा १, ३) ।

पडिसेहेअव्व देहो पडिसेह = प्रति + सिध् ।

पडिसोअ पुं [प्रतिस्त्रोतस] प्रतिकूल पडिसोत्त] प्रवाह, उलटा प्रवाह (ठा ४, ४, हे, २, ६८, उप २५२, पि ६१) ।

पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल (पड) ।

पडिस्सत देहो परिस्संत (नाट—मृच्छ १८८) ।

पडिस्संति लो [परिश्रान्ति] परिश्रम (नाट—मृच्छ ३२१) ।

पडिस्सय पु [प्रतिश्रय] जैन साधुओं को रहने का स्थान, उपाश्रय (श्रीप ८७ भा, उप ५७१, स ६८७) ।

पडिस्सर देहो पडिस्सर (पचा ८, ४६) ।

पडिस्साव सक [प्रति + आवय] १ प्रतिज्ञा करना । २ स्वीकार करना । वहु पडिस्सावअन्त (नाट—वेणी १८) ।

पडिस्सावि वि [प्रतिस्साविन्] भरनेवाला, उपकनेवाला (राज) ।

पडिस्सुण सक [प्रति + श्रु] १ सुनना । २ अगीकार करना । पडिस्सुणति (सूअ २, ६, ३०) । पडिस्सुणोएजा (सूप १, १४, ६) ।

पडिस्सुणे (उत्त १, २१) ।

पडिस्सुय वि [प्रतिश्रुत] १ प्रतिज्ञात । २ स्वीकृत (भहा, ठा १०) । देहो पडिसुय ।

उवा)। पमजिया (आचा)। वक्र, पमज्जेमाण (ठा ७)। सङ्ग पमज्जित्ता (भग, उवा)। हेङ्ग पमज्जित्तु (पि ५७७)।

पमज्जण न [प्रमार्जन] मार्जन, भूमि-शुद्धि (अत)।

पमज्जणिया } स्त्री [प्रमार्जनी] भाइ, भूमि पमज्जणी } साफ करने का उपकरण (गाया १, ७, धर्म ३)।

पमज्जय वि [प्रमार्जक] प्रमार्जन करनेवाला (दे ५, १८)।

पमज्जिअ वि [प्रमृष्ट, प्रमार्जित] साफ किया हुआ (उवा, महा)।

पमत्त वि [प्रमत्त] १ प्रमाद-युक्त, असावधान, प्रमादी, वेदरकार (उव, अग्नि १८५, प्रासू ६८)। २ न छठवाँ गुण-स्थानक (कम्म ४, ४७, ५६)। ३ प्रमाद (कम्म २)। ४ जोग पु [योग] प्रमाद-युक्त चेष्टा (भग)। ५ सजय पु [सयत] प्रमादी साधु, प्रमाद-युक्त मुनि (भग ३, ३)।

पमद् देखो पमय (स्वप्न ५१, कप्पु)।

पमद्दा देखो पमया (नाट—शकु २)।

पमद् सक [प्र + मृद्] १ मर्दन करना। २ विनाश करना। ३ कम करना। ४ छूएँ करना। ५ रुई की पूछी—पूनी बनाता। वक्र, पमद्दमाण (पिड ५७४)।

पमद्द पुं [प्रमर्द] १ ज्योतिष शास्त्र मे प्रसिद्ध एक योग (सम १३, सुज १०, ११)। २ सवर्ष, समर्द (राज)। ३ वि मर्दन करनेवाला। ४ विनाशक, 'सार मण्णइ सव्वं पच्चक्खणं सु भवदुहपमद्' (संगोष ३७)।

पमद्दण न [प्रमर्दन] १ चूरना, चूरे करना (राय)। २ नाश करना। ३ कम करना (सम १२२)। ४ रुई की पूछी करना (पिड ६०३)। ५ वि विनाश करनेवाला (पचा १४, ४२)।

पमद्दय वि [प्रमर्दक] प्रमर्दन-कर्ता (दसनि १०, ३०)।

पमद्दि वि [प्रमर्दिन्] प्रमर्दन करनेवाला (औप, पि २६१)।

पमय पुं [प्रमय] १ आनन्द, हर्ष (काल, आ २७)। २ न. धतूरे का फल। ३ च्छी स्त्री [क्षी] स्त्री, महिला (सुपा २३०)। ४ वण

न [वन] राजा का अन्त पुर-स्थित वह वन या वागीचा जहाँ राजा रानियों के साथ क्रीडा करे (से ११, ३७, गाय १, ८, १३)।

पमया स्त्री [प्रमदा] उत्तम स्त्री, श्रेष्ठ महिला (उव, बृह ४)।

पमह पु [प्रमथ] शिव का अनुचर (पाथ)। १ ग्राह पु [नाथ] महादेव (समु १५०)। २ हिंवि पु [धिप] शिव, महादेव (गा ४४८)।

पमा सक [प्र + मा] सत्य-सत्य ज्ञान करना। कर्म पमोयए (विसे ६४६)।

पमा स्त्री [प्रमा] १ प्रमाण, परिमाण, 'पीअलघाउविणिमिअविहथियममाहुलिंगमाहुरए' (कुमा)। २ प्रमाण, न्याय, 'अतिप्पसगो पमासिद्धो' (धर्मस ६८१)।

पमा देखो पमाय = प्रमाद (वव १)।

पमाइ वि [प्रमादिन्] प्रमादी, वेदरकार (सुपा ५४३, उव, आचा)।

पमाइअव्व देखो पमाय = प्र + मद्।

पमाइल्ल देखो पमाइ, 'धम्मपमाइल्ले' (उप ७२८ टी)।

पमाण सक [प्र + मानय्] विशेष रीति से मानना, आदर करना। कृ पमाणणिज्ज (आ २७)।

पमाण न [प्रमाण] १ यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। २ जिससे वस्तु का सत्य सत्य ज्ञान हो वह, सत्य ज्ञान का साधन (अणु)। ३ जिससे नाप किया जाय वह, 'अणुप्पमाणणि' (आ २७, भग, अणु)। ४ नाप, माप, परिमाण (विचार ५४४, ठा ५, ३, जीवस ६४, भग, विपा १, २)। ५ सख्या (अणु, जी २६)। ६ प्रमाण शास्त्र, न्याय-शास्त्र, तर्क-शास्त्र, 'लक्खणसाहित्तपमाणजोइसाक्षिण सा पडइ' (सुपा १०३)। ७ पुंन. सत्य रूप से जिसका स्वीकार किया जाय वह। ८ माननीय, आदरणीय। ९ सचा, सही, ठीक-ठीक, यथार्थ, 'कमागमो जो य जेसिं किल धम्मो सो य पमायो तेसिं' (सुपा ११०, आ १४), 'सुचिरं पि अच्छमाणो नलयमो पिच्छ इच्छुवाडम्मि'।

कीस न जायइ महुरो जइ सेसगी पमाण ते' (प्रासू ३३)।

वाय पु [वाद] न्याय-शास्त्र, तर्क-शास्त्र

(सम्मत ११७)। १ सवच्छर पु [सवस्सर] वर्ष-विशेष (सुज १०, २०)।

पमाण सक [प्रमाणय्] प्रमाण रूप से स्वीकार करना। पमाण, पमाणह (पिण)। वक्र पमाणत (उवर १८६)। कृ पमाणियव्व (सिदि ६१)।

पमाणिअ वि [प्रमाणित] प्रमाण रूप से स्वीकृत (सुपा ११०, आ १२)।

पमाणिआ } स्त्री [प्रमाणिका, प्रमाणी] पमाणी } छन्द-विशेष (पिण)।

पमाणीकर अक्र [प्रमाणी + कृ] प्रमाण करना, सत्य रूप से स्वीकार करना। कर्म, पमाणीकरीअदि (शौ) (पि ३२४)। सङ्ग पमाणीकिअ (नाट—मालवि ४०)।

पमाद् देखो पमाय = प्र + मद्। कृ पमादेयव्व (गाया १, १—पत्र ६०)।

पमाद् देखो पमाय = प्रमाद (भग, ओप, स्वप्न १०६)।

पमाय अक्र [प्र + मद्] प्रमाद करना, वेदरकारी करना। पमायइ, पमायए (उव, पि ४६०)। वक्र पमायत (सुपा १०)। कृ पमाइअव्व (भग)।

पमाय पु [प्रमाद्] १ कर्तव्य कार्य में अप्रवृत्ति और अकर्तव्य कार्य में प्रवृत्ति रूप असावधानता, वेदरकारी (आचा, उत ४, ३२, महा, प्रासू ३८, ३३४)। २ दुःख, कष्ट, 'समगलोयाण वि जा विमायासमा सपुण्याइयमुप्पमाया' (सत्त ३५)।

पमार पुं [प्रमार] १ मरण का प्रारम्भ (भग १५)। २ बुरी तरह मारना (ठा ५, १)।

पमारणा स्त्री [प्रमारणा] बुरी तरह मारना (वव ३)।

पमिय वि [प्रमित] परिमित, नापा हुआ, 'अणुलमूलासत्थिममागप्पमिया उहोति सेदीमो' (पच २, २०)।

पमिल्लण वि [प्रम्लान] अतिशय घुरकाया हुआ (ठा ३, १, धर्मवि ५५)।

पमिल्लाय अक्र [प्र + म्लै] घुरकाना, 'पण-पन्नाय परेणं जोखी पमिल्लायए महित्तिवाए' (तदु ४)।

जात (ठा ४, २), 'हीति य पडुपन्नविणास-
णम्मि गवन्विद्या उदाहरण' (दसनि १)।

पडुह न [दे] १ लघु पिठर, छोटी थाली। २
वि चिरप्रसूत (दे ६, ६८)।

पडुवइअ वि [दे] तीक्ष्ण, तेज (दे ६, १४)।

पडुवत्ती स्त्री [दे] ज्वनिका, परदा (दे ६,
२२)।

पडुह देखो पडुहुह। पडुहुह (हे ४, १५४
दि)।

पडोअ वि [दे] बाल, लघु छोटा (दे ६, ६)।

पडोच्छन्न वि [प्रत्ययच्छन्न] आच्छादित,
श्रावृत, श्रद्धाविहकम्मत्तमपडलपडोच्छन्ने (उवा)।

पडोयार सक [प्रत्युप + चारय्] प्रतिकूल
उपचार करना। पडोयारेति पडोयारेह (भग
१५—पत्र ६७६)। पडोयारेउ (भग १५—
पत्र ६७१)। पडोयारे (पि १५५)। क्वक्क

पडोय (? या) रिज्जमाण, पडोयारेज्ज-
माण (पि १६३, भग १५—पत्र ६७६)।

पडोयार पु [दे] उपकरण (पिड २८)।

पडोयार पु [प्रत्युपचार] प्रतिकूल उपचार
(भग १५—पत्र ६७१, ६७६)।

पडोयार पु [प्रत्यवतार] १ अवतरण। २
श्राविर्भाव, 'भरहस्म वामस्स केरित्तए आगार-
भानपडोयारे होत्वा' (भग ६, ७—पत्र २७६,
७, ६—पत्र ३०५, श्रौप)।

पडोयार पु [पदावतार] किसी वस्तु का
पदों में विचार के लिए अवतरण (ठा ४,
१—पत्र १८८)।

पडोयार पु [प्रत्युपकार] उपकार का उपकार
(राज)।

पडोयार पु [दे] १ सामग्री। २ परिकर,
पायम्म पडोयार' (श्रौप ३५२)।

पडोल पुत्री [पटोल] सता विशेष, परवल
का गाछ (पण १—पत्र ३२)।

पडोहर न [दे] घर का पीछना आगन (दे
६, ३२, गा ३१३, काम २२४)।

पडु वि [दे] घवल, सफेद (दे ६, १)।

पडुन पु [दे] गिरि शृङ्गा, पहाड़ की शृङ्गा (दे
६, २)।

पडुन्नी स्त्री [दे] भैंस, 'पडुन्नी' (श्रौप
८७)।

पडुन्नी स्त्री [दे] १ बहुत दूधवाली। २
दोहनेवाली (दे ६, ७०)।

पडुय पुं [दे] भैंसा, पाडा, गुजराती में
'पाडो', 'सो चैव इमो वसभो पडुयपरिहट्टणं
सहई' (महा)।

पडुळा स्त्री [दे] चरण-वात, पाद-प्रहार (दे
६, ८)।

पडुस वि [दे] सुसयमित, अच्छी तरह से
सयमित (दे ६, ६)।

पडुाविअ वि [दे] समापित, समाप्त कराया
हुआ (षड्)।

पडुिया स्त्री [दे] १ छोटी भैंस, पाडी। २
छोटी गौ, बछिया (विपा १, २—पत्र २६)।
३ प्रथमप्रसूता गौ। ४ नव-प्रसूता महिषी
(वव ३)। पडुी स्त्री [दे] प्रथम-प्रसूता (दे
६, १)।

पडुआ स्त्री [दे] चरण-वात, पाद-प्रहार
(दे ६, ८)।

पडुहुह अक [क्षुभ्] क्षुब्ध होना। पडुहु-
हुह (हे ४, १५४, कुमा)।

पड सक [पठ्] १ पढना, अभ्यास करना।
२ बोलना, कहना। पडइ (हे १, १६६,
२३१)। कर्म पडोअइ, पडिअइ (हे ३,
१६०)। वक्क पडत (सुर १०, १०३)।
क्वक्क पडिज्जत, पडिज्जमाण (सुपा २६७,
उप ५३० टी)। सक्क, पडित्ता (हे ४,
२७१, षड्), पडिअ, पडिऊण (शौ) (हे
४, २७१), पडि (अप) (पिग)। हेक्क
पडिउ (गा २, कुमा)। क्क पडियन्व,
पडियन्व (पसू १, वज्जा ६)। प्रयो, पडावइ
(कुप्र १८२)।

पड पु [पड] भारतीय देश-विशेष (इक)।

पडग वि [पाठक] पढनेवाला (कप्प)।

पडण न [पठन] पाठ, अभ्यास (विसे
१३८४, कप्प)।

पडम वि [प्रथम] १ पहला, आद्य (हे १,
५५, कप्प, उवा, भग, कुमा, प्रासू ४८,
६८)। २ नूतन, नया (दे)। ३ प्रवान, मुख्य
(कप्प)। ४ करण न [करण] श्राव्या का
परिणाम-विशेष (पचा ३)। ५ कसाय पु
[कपाय] कपाय-विशेष, अनन्तानुबन्धी
कपाय (कम्मप)। ६ टाणि, ७ टाणि वि
[स्थानिन्] अब्युत्पन्न-शुद्धि, अनिष्णात
(पचा १६)। ८ पाउस पुं [प्रावृप्]
आपाइ नाम (निचू १०)। ९ समोसरण न

[समवसरण] वर्षा-काल, 'विइयसमोसरण
उचुवडं त पडुह वासावासोग्गहो पडमसमो-
सरण भएणइ' (निचू १)। १० सरय पुं
[शरत्] मार्गशीर्ष मास (भग १५)।
११ सुरा स्त्री [सुरा] नया दाहू, शराब (दे)।

पडमा स्त्री [प्रथमा] १ प्रतिपदा तिथि, पडवा
(सम २६)। २ व्याकरण-प्रसिद्ध पहली
विभक्ति, 'एहिंसे पडमा होइ' (अणु)।

पडमालिआ स्त्री [दे प्रथमालिका] प्रथम
भोजन (श्रौप ४७ भा, वमं ३)।

पडमिल्ल वि [प्रथम] पहला, आद्य

पडमिल्लुअ (भग, धा २८, सुपा ५७, पि
पडमिल्लुग ४४६, ५६५, विसे १२२६,
पडमुल्लअ (शाया १, ६—पत्र १४४,
पडमेरल्लुय १, पत्र ६२, ११, घण
१६, सण)।

पडाइइ [शौ] नीचे देखो (नाट—चैत ८६)।

पडाव सक [पाठय्] पढाना। पडावेइ (प्राक्क
६०)। सक्क पडाविऊण, पडावेऊण (प्राक्क
६१)। हेक्क पडाविउ, पडावेउ (प्राक्क
६१)। क्क पडावणिज्ज, पडाविअन्व
(प्राक्क ६१)।

पडावअ वि [पाठक] अध्यापक (प्राक्क ६०)।

पडावण न [पाठन] पढाना (कुप्र ६०)।

पडाविअ वि [पाठित] पढाया हुआ (सुपा
४५३, कुप्र ६१)।

पडाविअवत वि [पाठितवत्] जिसने
पढाया हो वह (प्राक्क ६१)।

पडाविउ वि [पाठयिउ] अध्यापक (प्राक्क
पडाविर } ६०)।

पडि पडिअ } देखो पड = पठ् ।

पडिअ वि [पठित] पढा हुआ (कुमा, प्रासू
१०८)।

पडिज्जत पडिज्जमाण } देखो पड = पठ् ।

पडिअ वि [पठिउ] पढनेवाला (सण)।

पडुक्क वि [प्रदौकित] भेंट के लिए उपस्था-
पित (भवि)।

पडुम देखो पडम (हे १, ५५, नाट—विक्र
२६)।

पडेयन्व देखो पड = पठ् ।

पडे देखो पडाव । पडेइ (प्राक्क ६०)।

पम्हस सक [वि + स्मृ] विस्मरण करना, भूल जाना । पम्हसइ (पइ), पम्हसिज्जासु (गा ३४८) ।

पम्हसाविय वि [विस्मारित] भूलाया हुआ, विस्मृत कराया हुआ (सुख २, ५) ।

पम्हा वी [पद्मा] ? लेश्या-विशेष, पद्म-लेश्या, आत्मा का शुभतर परिणाम-विशेष (कम्म ३, २२, आ २६) । २ विजय-क्षेत्र विशेष (राज) ।

पम्हार पु [दे] अपमृत्यु, वेमौत मरण (दे ६, ३) ।

पम्हावई वी [पक्षमावती] ? विजय-विशेष की एक नगरी (ठा २, ३, इक) । २ पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

पम्हुट्ट वि [दे] ? नष्ट, नाश प्राप्त (हे ४, २५८) । २ विस्मृत, 'पम्हुट्ट विम्हरिअ' (पाअ), 'किं थ तय पम्हुट्ट' (खाया १, ८—पत्र १४८, विचार २३८) ।

पम्हुत्तरवडिसग न [पक्षमोत्तरावतसक] ब्रह्मलोक में स्थित एक देव विमान (सम १५) ।

पम्हुस सक [वि + स्मृ] भूलना, विस्मरण करना । पम्हुसइ (हे ४, ७५) ।

पम्हुस सक [प्र + मृश] स्मरण करना । पम्हुसइ, पम्हुस (हे ४, १८४, कुमा ७, २६) ।

पम्हुस सक [प्र + मुपु] चोराना, चोरी करना । पम्हुसइ, पम्हुमेइ, पम्हुसति (हे ४, १८४, सुपा १३७, कुमा ७, २६) ।

पम्हुसण न [विस्मरण] विस्मृति (पचा १५, ११) ।

पम्हुसिअ वि [विस्मृत] जिसका विस्मरण हुआ हो वह (कुमा, उप ७६८ टी) ।

पम्हुह सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना । पम्हुहइ (हे ४, ७४) ।

पम्हुहण वि [स्मृ] स्मरण करनेवाला (कुमा) ।

पय सक [पच्] पकाना, पाक करना । पयइ (हे ४, ६०) । वरु पयत (कप्य) । सक पइउ (कुप्र २६६) ।

पय सक [पद्] ? जाना । २ जानना । ३ विचारना । पयइ (विसे ४०८) ।

पय पुंन [पयस्] ? क्षीर, दूध, 'पओ' (हे १, ३२, ओष १२, पाअ) । २ पानी, जल (सुपा १३६, पाअ) । 'हर देवो पओहर (पिग) ।

पय पु [प्रज] प्राणी, जन्तु (आचा) ।

पय पुन [पद्] ? विभक्ति के साथ का शब्द, 'पयमत्यवायग जोयग च त नामियाइ पचविह' (विसे १००३, प्रासू १३८, आ २३) । २ शब्द-समूह, वाक्य, 'उवएसपया इह समकखाया' (उप १०३८, आ २३) ।

३ पैर, पांव, चरण, 'जाणं च तज्जातज्जाणोइ लग्गो ठवेमि मदपए, कव्वपहे वालो इव', 'जाव न सत्तु पए पच्चाहुत्त नियत्तो सि' (सुपा १, धम्वि ५४, सुर ३, १०७, आ २३) । ४ पाद-चिन्ह, पदाङ्क (सुर २, २३२, सुपा ३५४, आ २३, प्रासू ५०) । ५ पय का चौथा हिस्सा (अणु) । ६ निमित्त, कारण (आचा) । ७ स्थान, 'अवमाणपय हि सेव ति' (सुर २, १६७, आ २३) । ८ पदवी, अधिकार, 'जुवरायपए कि नवि अहिसिच्चइ देव मे पुत्तो ?' (सुर २, १७५, महा) । ९ श्राण, शरण । १० प्रदेश । ११ व्यवसाय (आ २३) । १२ कूट, जाल-विशेष (सुप्र १, १, २, ८) । 'खेम न [खेम] शिव, कल्याण, 'कुव्वइ अ सो पयलेममण्णो' (दस ६, ४, ६) । 'दथ पु [स्थ] पदाति, पैदल, प्यादा, 'तुरएण सह तुरगो पाइको सह पयल्येण' (पउम ६, १८२) । 'पास पु [पाश] वायुरा, जाल आदि बन्धन (सुप्र १, १, २, ८, ६) । 'रक्ख पु [रक्ष] पदाति, प्यादा (भवि, हे ४, ४१८) ।

'विग्गह पु [विग्रह] पदविच्छेद (विसे १००६) । 'विभाग पु [विभाग] उत्सर्ग और अपवाद का यथा-स्थान निवेश, सामा-चारो-विशेष (आव १) । 'वीड देवो पाय-वीड (पव ४०, सुपा ६५६) । 'समास पुं [समास] पदों का समुदाय (कम्म १, ७) । 'णुमारि वि [णुसारिन्] एक पद में अनेक अतुक्त पदों का भी अनुसंधान करने की शक्तिवाला (श्रीप, बृह १) । 'णुसारिणी वी [णुसारिणी] बुद्धि-विशेष, एक पद के अर्थ से दूसरे अश्रुत पदों का स्वयं

पता लगानेवाली बुद्धि (परण २१) ।

पय (अप) देवो पत्त = प्राप्त (पिग) । पयं देवो पया = प्रजा । 'पाल वि [पाल] ? प्रजा का पालक । २ पुं तृप-विशेष (सिदि ४५) ।

'पय वि [प्रद] देनेवाला, 'पीहप्यम' (रभा) । पयइ वी [प्रकृति] सवि का अभाव (अणु ११२) ।

पयइ देवो पगइ (गा ३१७, गउड, महा, नव ३१, मत ११४, कप्प, कुप्र ३४६) । पयइद पु [पतरोन्द्र, पदकेन्द्र] वानव्यन्तर-जातीय देवों का इन्द्र (ठा २, ३) ।

पयई देवो पयवी (गउड) । पयग पु [पतङ्ग] ? सूर्य, रवि (पाअ), 'तो हरिसपुलइयगो चक्को इव दिट्ठउगयपयगो' (उव ७२८ टी) । २ रग-विशेष, रञ्जन-द्रव्य-विशेष (उर ६, ४, सिदि १०५७) । ३ शनभ, फातिगा, उठनेवाला छोटा कीट (खाया १, १७, पाअ) । ४—५ देवो पयय = पतग, पदक, पदग (परह १, ४—पत्र ६८, राज) । 'वीहिया वी [वीथिका] ? शलभ का उठना । २ भिक्षा के लिए पतग की तरह चलना, बीच में दो चार धरों को छोड़ते हुए भिक्षा लेना (उत्त ३०, १६) । 'वीही वी [वीथी] वही पूर्वोक्त अर्थ (उत्त ३०, १६) ।

पयचुल पुन [प्रपञ्चुल] मत्स्यवन्धन-विशेष, मछली पकड़ने का एक प्रकार का जाल (विपा १, ८—पत्र ८५) । पयड वि [प्रचण्ड] ? अत्युप, तीव्र, प्रखर । २ भयानक, भयकर (परह १, १, ३, ४, उव) । पयड वि [प्रफण्ड] अत्युप, उत्कट (परह १, ४) । पयत देवो पय = पच् । पयप अक [प्र + कप्] अतिशय कल्पना । वरु पयपमाण (स ५६६) । पयप सक [प्र + जल्प] ? बहना, बोलना । २ बकवाद करना । पयपए (महा) । सक पयपिऊण, पयपिऊण (महा, पि ५८५) । क पयपिऊव (गा ४५०, सुपा ५५२) ।

पणव देखो पणम । पणवइ (भवि) । पणवह (हे २, १६५) । वक्र, पणवत (भवि) ।

पणव पु [पणव] श्रोकार, 'श्रो' अक्षर (सिदि १६६) ।

पणव पु [पणव] पट्ट, ढोल, वाद्य-विशेष (श्रौप, कप्प, अत) ।

पणवणिय देखो पणवन्निय (श्रौप) ।

पणवण्ण } देखो पणपन्न (पि २६५, २७३, पणवन्न } भाग, हे २, १७४ टि) ।

पणवन्निय पु [पणपन्निक] व्यन्तर देवो की एक जाति (पणह १, ४) ।

पणविय देखो पणमिय = अणत (भवि) ।

पणव्रीसो स्त्री [पञ्चविंशतिका] पचीस का मूह (सबोध २५) ।

पणस पु [पनस] वृक्ष-विशेष, कटहल या बटहर (पि २०८, नाट—गुच्छ २१८) ।

पणसुदरो स्त्री [पणसुन्दरी] वेश्या (धर्मैवि १२७) ।

पणाम सक [अर्पय्] अर्पण करना, देने के लिए उपस्थित करना । पणामइ (हे ४, ३६), 'वदिश्रो य पणयाण कल्लाणाइ पणामइ' (सुपा ३६३) ।

पणाम सक [प्र + नमय्] नमाना । पणामेइ (महा) ।

पणाम सक [उप + नी] उपस्थित करना । पणामेइ (प्राक ७१) ।

पणाम पु [प्रणाम] नमस्कार, नमन (दे ७, ६, भवि) ।

पणामणिआ स्त्री [दे] स्त्रीविषयक प्रणय (दे ६, ३०) ।

पणामय वि [अर्पक] देनेवाला (सुम १, २, २) ।

पणामय वि [प्रणामक] १ नमानेवाला । २ शब्द धादि विषय (सुम १, २, २, २७) ।

पणामिअ वि [अर्पित] समर्पित, देने के लिए परा हुआ (पाष, कुमा), 'अपणामियनि गहिअ पुसुमत्तरेण महमासलच्छीए मुह' (हेता ५०) ।

पणामिअ वि [प्रणामित] नमाया हुआ (ने ४, ३१, गा २२) ।

पणामिअ वि [प्रणमित] नत, नमा हुआ, 'पणामिआ नायद' (स ३१६) ।

पणायक } वि [प्रणायक] ले जानेवाला, पणायग } 'निन्वाणगमणसगणपणायकाइ' (पणह २, १, पणह २, १ टी, वव १) ।

पणाल पु [प्रणाल] मोरी, पानी आदि जाने का रास्ता (से १३, ५४, उर १, ५, ६) ।

पणालिआ स्त्री [प्रणालिका] १ परम्परा (सुम १, १३) । २ पानी जाने का रास्ता (कुमा) ।

पणाली स्त्री [प्रणाली] मोरी, पानी जाने का रास्ता (गउड) ।

पणाली स्त्री [प्रणाली] शरीर-प्रमाण लम्बी लाठी (पणह १, ३—पत्र ५४) ।

पणास सक [प्र + नाशय्] विनाश करना । पणासेइ, पणासए (महा) ।

पणास पु [प्रणारा] विनाश, उच्छेदन (भावम) ।

पणासण वि [प्रणाशन] विनाश करनेवाला, 'सव्वपावणपणासणो' (पडि, कप्प) । स्त्री 'णी' (आ ४६) ।

पणासिय वि [प्रणाशित] जिसका विनाश किया गया हो वह (कप्प, भवि) ।

पणिअ वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे ६, ७) ।

पणिअ वि [प्रणीत] रचित (सुमनि ११२) ।

पणिअ न [पणित] १ बेचने योग्य वस्तु (दे १, ७४, ६, ७, खाया १, १) । २ व्यवहार, लेन-देन, क्रय-विक्रय (भग १५, खाया १, ३—पत्र ६५) । ३ शत, होड, एक तरह का जुआ (भास ६२) । °भूमि, °भूमी स्त्री [°भूमि, °भूमी] १ अनाय देश-विशेष, जहाँ भगवान महावीर ने एक चौमासा विताया था (राज, कप्प) । २ विक्रय वस्तु रखने का स्थान (भग १५) । °साळा स्त्री [°शाळा] हाट, दूकान (बृह २, निवू १६) ।

पणिअ न [पणय] विक्रय वस्तु (सुपा २७५, श्रौप, आचा) । °गिह, °घर न [°गृह] दूकान, हाट (निवू १२, आचा २, २, २) । °साळा स्त्री [°शाळा] हाट, दूकान (आचा) । °वण पु [°पण] दूकान, हाट (आचा) ।

पणिअ वि [प्रणीत] सुन्दर, मनोहर । °भूमि स्त्री [°भूमि] मनोज्ञ भूमि (भग १५) ।

पणिअट्ट वि [पणितार्थ] चोर (दस ७, ३७) ।

पणिअसाळा स्त्री [पण्यशाळा] बजार, भ्रम या माल रखने का घिरा हुआ स्थान, गोदाम (आना २, २, २, १०) ।

पणिआ स्त्री [दे] करोटिका, सिरकी हड्डी, खोपड़ी (दे ६, ३) ।

पणिदि } वि [पञ्चेन्द्रिय] त्वक्, जीम, पणिदिय } नाक, श्रोत्र और कान इन पाँचों इन्द्रियोवाला प्राणी (कम्म २, ४, १०, १८, १६) ।

पणिद्ध वि [प्रस्निग्ध] विशेष स्निग्ध (अणु २१५) ।

पणिधाण देखो पडिहाण (अभि १८६, नाट—विक्र ७२) ।

पणिधि पु स्त्री [प्रणिधि] माया, छल, 'पुणो पुणो पण्णिधि (१ की)ए हरित्ता उवहसे जण' (सम ५०) । देखो पणिहि ।

पणियत्थ वि [प्रणिवसित] पहना हुआ (श्रौप) ।

पणिलिअ वि [दे] हत, मारा हुआ (षड्) ।

पणिवइअ वि [प्रणिपत्तित] नत, नमा हुआ, 'परिवइयवच्छला ण देवाणुप्पिया । उत्तम-पुरिसा' (खाया १, १६—पत्र २१६, स ११, उप ७६८ टी) ।

पणिवइअ वि [प्रणिपत्तित] जिसको नमस्कार किया गया हो वह, 'नरपह्णि परिवइयो नीरो' (धर्मैवि ३७) ।

पणिवय सक [प्रणि + पत्] नमन करना, वन्दन करना । पणिवयामि (कप्प, साध ६१) ।

पणिवाय पुं [प्रणिपात] वन्दन, नमस्कार (सुर ४, ६८, सुपा २८, २२२, महा) ।

पणिहा सक [प्रणि + धा] १ एकाग्र चिन्तन करना, ध्यान करना । २ अपेक्षा करना । ३ अभिलाषा करना । ४ चेट्टा करना, प्रयत्न करना । सक पणिहाय (खाया १, १०, भग १५) ।

पणिहाण न [प्रणिवान] १ एकाग्र ध्यान, मनो-निर्भोग, भ्रवधान (उत्त १६, १४, स ८७, प्रामा) । २ प्रयोग, व्यापार, चेट्टा, 'तिविहे परिणहाये परण्णत्ते, त जहा—मणपरिणहाये, वयपरिणहाये, कायपरिणहाये' (ठा ३, १, ४, १, भग १८, उवा) । ३ अभिलाषा, कामना,

पयर सक [स्मृ] स्मरण करना । पयरेइ (हे ४, ७४) । वक्र पयरत (कुमा) ।

पयर अक [प्र + चर] प्रचार होना, 'रत्ना सूयारा भणिया ज लोए पयरइ त सव्व सव्वे रंघह' (श्रावक ७३ टी) ।

पयर अक [प्र + चर] १ फेलना । २ व्यापृत होना, काम मे लगना । पयरइ (एदि ५१) ।

पयर पु [प्रकर] समूह, साथ, जत्या, 'पयरो पिवीलियाए भीमपि भुवगम डसइ' (स ४२१, पात्र, कप्प) ।

पयर पुं [प्रदर] १ योनि का रोग-विशेष । २ विदारण, भग । ३ शर, नाण (दे ६, १४) ।

पयर देखो पइर = वप्, 'कोडुविओ य खित्त धल्ल पयरेइ' (सुपा ३६०) ।

पयर = देखो पयार = प्रकार (हे १, ६८, पड) ।

पयर देखो पयार = प्रचार (हे १, ६८) ।

पयर पुन [प्रतर] १ पत्रक, पत्रा, पतरा, 'करणपयरलवमाणमुत्तासमुज्जल वरविमाणपुडरीय' (कप्प, जीव ३, आच्छ १) । २ वृत्त पत्राकार आभूषण-विशेष, एक प्रकार का गहना (श्रीप, णाया १, १) । ३ गरिणत-विशेष, सूची से गुणी हुई सूची (कम्म ५, ६७, जीवस ६२, १०२) । ४ भेद-विशेष, बॉस आदि की तरह पदार्थ का पृथग्भाव (भास ७) । ५ तप पुन [तपस्] तप-विशेष, 'वट्ट न [वृत्त] सत्यान-विशेष (राज) ।

पयर न [प्रतर] गरिणत-विशेष, श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी (अणु १७३) ।

पयरण न [प्रकरण] १ प्रस्ताव, प्रसंग । २ एकार्थ-प्रतिपादक ग्रंथ । ३ एकार्थ-प्रतिपादक ग्रथाश, 'जुम्हदम्हपयरण' (हे १, २४६) ।

पयरण न [प्रतरण] प्रथम दातव्य भिक्षा (राज) ।

पयरिस देखो पर्यंस । वक्र. पयरिसत (पउम ६, ६४) ।

पयरिस देखो पगरिस (महा) ।

पयल अक [प्र + चल] १ चलना । २ स्थलित होना । पयलेज्ज (आचा २, २,

३, ३) । वक्र पयलेमाण (आचा २, २, ३, ३) ।

पयल देखो पयड = प्र + कट्ठ् । पयल (पिंग) । सक. पअलि (अप) (पिंग) ।

पयल देखो पयड = प्रकट (पिंग) ।

पयल (अप) सक [प्र + चाल्य] १ चलाना । २ गिराना । पयल (पिंग) ।

पयल वि [प्रचल] चलायमान, चलनेवाला (पउम १००, ६) ।

पयल पु [दे] नौड, पक्षि-गृह (दे ६, ७) ।

पयल } स्त्री [दे प्रचला] १ निद्रा, नौद पयला } (दे ६, ६) । २ निद्रा-विशेष, बैठे-बैठे और खडे खडे जो नौद आती है वह ।

३ जिसके उदय से बैठे-बैठे और खडे-खडे नौद आती है वह कर्म (सम १५, कम्म १, ११) । ५ पयला स्त्री [दे प्रचला] १ कर्म विशेष, जिसके उदय से चलते-चलते निद्रा आती है वह कर्म । २ चलते-चलते आने-वाली नौद (कम्म १, १, ठा ६, निच्च ११) ।

पयला अक [प्रचलाय] निद्रा लेना, नौद करना । पयलाइ (पात्र) । हेऊ पवलाइत्तप (कस) ।

पयलाइअ न [प्रचलायित] १ नौद, निद्रा । २ धूर्णन, नौद के कारण बैठे-बैठे सिर का डोलना (से १२, ४२) ।

पयलाइया स्त्री [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की एक जाति (सूत्र २, ३, २५) ।

पयलाय देखो पयला = प्रचलाय । पयलायइ (जीव ३) । वक्र पयलायत (राज) ।

पयलाय पु [दे] १ हर, महादेव (दे ६, ७२) । २ सर्प, साप (दे ६, ७२, पड) ।

पयलायण न [प्रचलायन] देखो पयलाइअ (वह ३) ।

पयलायभत्त पु [दे] मयूर, मोर (दे ६, ३६) ।

पयलिअ देखो पयडिअ (पिंग, पि २३८) ।

पयलिय वि [प्रचलित] १ स्थलित, गिरा हुआ (राय, आच) । २ हिला हुआ (पउम ६८, ७३, णाया १, ८, कप्प; श्रीप) ।

पयलिय वि [प्रदलित] भागा हुआ, तोड़ा हुआ (कप्प) ।

पयले सक [प्र = चाल्य] चलायमान करना, स्थिर करना । पयलेत्त (दमनू १, १७) ।

पयल अक [प्र + सू] पसरना, फैलना । पयलइ (हे ४, ७७, प्राकृ ७६) ।

पयल अक [कृ] १ शिथिलता करना, ढीला होना । २ लटकना । पयलइ (हे ४, ७०) ।

पयल वि [प्रसूत] फैला हुआ (पात्र) ।

पयल पुं [प्रकल्य] महाग्रह-विशेष (सुज्ज २०) ।

पयल्लि वि [प्रसुमर] फेलनेवाला (कुमा) ।

पयल्लि वि [शैथिल्यकृत्] शिथिल होने-वाला, ढीला होनेवाला (कुमा ६, ४३) ।

पयल्लि वि [लम्बनकृत्] लटकनेवाला (कुमा ६ ४३) ।

पयव सक [प्र + तप्, ताप्य] तपाना, गरम करना । पयवेज्ज (से ४, २८) । वक्र पअविज्जत (से २, २४) ।

पयव सक [पा] पीना, पान करना । कवक 'वीअ सइमुहल धणपअविज्जतअ' (से २, २४) ।

पयवई स्त्री [दे] सेना, लश्कर (दे ६, १६) ।

पयवि स्त्री [पदवि] देखो पयवी (चैद्य ८७२) ।

पयविअ वि [प्रतप्त, प्रतापित] गरम किया हुआ, तपाया हुआ (गा १८५, से २, २५) ।

पयवी स्त्री [पदवी] १ मार्ग, रास्ता (पात्र, गा १०७, सुपा ३७८) । २ विरुद, पदवी (उप पु ३८६) ।

पयह सक [प्र + हा] त्याग करना, छोड़ना ।

पयहे, पयहिज्ज, पयहेज्ज (सूत्र १, १०, १५, १, २, २, ११, १, २, ३, ६, उत ४, १२, स १३६) । सक पयहिय (पउम ६३, १६, गच्छ १, २४) । कृ. पयहियव्य (स ७१४) ।

पयहिण देखो पदक्खिण = प्रदक्षिण (अवि) ।

पया सक [प्र + जन्य] प्रसव करना, जन्म देना । पयामि (विपा १, ७) । पयाएज्जामि (विपा १, ७) । अवि पयाहित्ति, पयाहित्ति, पयाहित्ति (कप्प, पि ७६, कप्प) ।

पया सक [प्र + या] प्रयाण करना, प्रस्थान करना । पयाइ (उत १३, २४) ।

पया स्त्री [दे] कुल्ली, कुल्हा (राज) ।

पया स्त्री. व. [प्रजा] १ वधमर्तो मनुष्य, रैयत, 'जह य पयाण नरिदो' (उर, विपा

१२) । परिषह, परिषह पुं [परिषह, परिषह] ? बुद्धि का गर्वन करना । २ बुद्धि के अभाव में खेद न करना (भग ८, ८, पव ८६) । मय पुं [मद्] बुद्धि का अभिमान (सूत्र १, १३) । वंत वि [वत्] ज्ञानवान् (राज) ।

पण्णाग वि [प्रज्ञ] विद्वान् (पचा १७, २७) ।

पण्णाड देखो पन्नाड पण्णाडइ (दे ६, २६) ।

पण्णाण न [प्रज्ञान] ? प्रकृत ज्ञान । २ सम्यग् ज्ञान (सम ५१) । ३ आगम, शास्त्र (आचा) । व वि [वत्] ? ज्ञानवान् । २ शास्त्रज्ञ (आचा) ।

पण्णाराह (अप) वि व [पञ्चदशन्] पनरह (पिग) ।

पण्णावीसा ली [पञ्चविंशति] पचीस, बीस और पाच, २५ (पह) ।

पण्णास लीन [दे पञ्चाशत्] पचास, ५० (दे ६, २७, पड, पि २७३, ४४५, कुमा) । देखो पन्नास ।

पण्णासग वि [पञ्चाशक] पचास वर्ष की उम्र का (तेदु १७) ।

पण्णुवीस देखो पण्णुवीस (स १४६) ।

पण्ठ पुत्री [प्रश्न] प्रश्न, पृच्छा (हे १, ३५, कुमा) । ली ण्हा (हे १, ३५) । (हे १, ३५) । वाहण न [वाहन] जैन मुनि-गण का एक कुल (ती ३८) । वागरण न [वागकरण] ग्यारहवाँ जैन अग-ग्रन्थ (परह २, ५, टा १०, विपा १, १, सम १) । देखो पन्निण ।

पण्हअ अरु [प्र+स्तु] भरना, टपकना, 'एतो परहअइ यणो' (गा ४०६, ४६२ अ) ।

पण्हअ } पु [दे प्रम्नन्] ? स्तन-धारा,
पण्हय } स्तन में दूध का भरना (दे ६, ३, पि २३१, राज, अत ७, पड, २ भरन, टपना, दिट्ठिपरहव' (पिड ८८७) ।

पण्हय पु [पहय] ? अनायं देग-विशेष । २ वि न देग का निामी (परह १, १—पत्र १४) ।

पण्हय न [प्रम्नन] धारण, भग्ना (निपा १, ८) ।

पण्हविअ देखो पण्हुअ (दे ६, २५) ।

पण्हो देखो पण्ह ।

पण्हि पुंली [पार्णिग] फीली का अघोभाग, गुल्फ की नीचला हिस्सा, एडी (परह १, ३, दे ७, ६२) ।

पण्हिया ली [प्रश्निका] एडी, गुल्फ का अघोभाग, भेलित्तु परिहयाओ चरणे वित्थारिऊण बाहिरओ' (चैद्य ४८६) ।

पण्हुअ वि [प्रस्तुत] ? क्षरित, भरा हुआ । २ जिसने भरने का प्रारम्भ किया हो वह, 'परहयपयोहराओ' (पउम ७६, २०, हे २, ७५) ।

पण्हुइर वि [प्रस्तोत्] भरनेवाला, 'हत्थफसेण जरगगवीवि परहअइ दोहअप्रणोण' । अवलोअरणपरहइरि पुत्तअ पुएणेहि पाविहिस्सि' (गा ४६२) ।

पण्होत्तर न [प्रश्नोत्तर] सवाल-जवाब (सुर १६, ४१, कप्प) ।

पतणु देखो पयणु (राज) ।

पतार सक [प्र + तारय] ठगना । सक पतारिअ (अभि १७१) ।

पतारग वि [प्रतारक] बन्चक, ठग (धम्मस १४७) ।

पतिण्ण } वि [प्रतीर्ण] पार पहुँचा हुआ,
पतिन्न } निस्तीर्ण (राज, परह २, १—पत्र ६६) ।

पतुण्ण } न [प्रतुन्न] बलकल का बना हुआ
पतुन्न } बल (आचा २, ५, १, ७) ।

पतेरस } वि [प्रत्रयोदश] प्रकृत तेरहवाँ ।
पतेलस } वास न [वर्ष] ? प्रकृत तेरहवाँ वर्ष । २ प्रकृत तेरहवाँ वर्ष । ३ प्रस्थित तेरहवाँ वर्ष (आचा) ।

पत्त वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुआ (कप्प, सुर ४, ७०, सुपा २७७, जी ४४, द ४६, प्रासू ३१, १६२, १८२, गा २४८) । काल, याल न [काल] ? चैत्य विशेष (राज) । २ वि अनसरोचित (स ४६०) ।

पत्त न [पत्र] ? पत्ती, पत्ता, दल, पण (कप्प, सुर १, ७२, जी १०, प्रासू ६२) । २ पक्ष पत्र, पत्र (रागाया १, १—पत्र २४) । ३ जिसपर लिखा जाता है वह, कागज, पन्ना

(स ६२, सुर १, ७२, से २, १७३) ।

च्छेज न [च्छेद्य] कला-विशेष (श्रीप, स ६५) । मंत वि [वत्] पत्रवाला (रागाया १, १) । रह पुं [रथ] पक्षी (पाम्म) । लेहा ली [लेखा] चन्दनादि से पत्र के आकृतिवाली रचना-विशेष, भूषा का एक प्रकार (अजि २८) । वल्ली ली [वली] ? पत्रवाली लता । २ मुह पर चन्दन आदि से की जाती पत्र-श्रेणी-तुल्य रचना (कुप्र ३६५) । विंत न [वृन्त] पत्र का बन्धन (पि ५३) । विटिय वि [वृन्तक, वृन्तीय] श्रोत्रिय जन्तु-विशेष, पत्र वृन्त में उत्पन्न होता एक प्रकार का श्रोत्रिय जन्तु (परण १—पत्र ४५) । विच्छुय पु [वृश्चिक] जीव-विशेष, एक तरह का वृश्चिक, चतुरिन्द्रिय जीवों की एक जाति (जीव १) । वेंट देखो विंत (पि ५३) । सगडिआ ली [शकटिका] पत्ती से भरी हुई गाडी (भग) । समिद्ध वि [समृद्ध] प्रभूत पत्तेवाला (पाम्म) । हार पुं [हार] श्रोत्रिय जन्तु-विशेष (परण १—पत्र ४५, उत ३६, १३८) । हार पुं [हार] पत्ती पर निर्वाह करनेवाला वानप्रस्थ (श्रीप) ।

पत्त न [पत्र] ? भाजन (कुमा, प्रासू ३६) । २ आघार, आश्रय, स्थान (कुमा) । ३ वान देने योग्य गुणी लोक (उप ६४८ टी, महा) । ४ लगातार बत्तीस उपवास (सबोध ५८) । वध पु [बन्ध] पात्रों को बाँधने का कपडा (श्रीव ६६८) । देखो पाय = पात्र ।

पत्त वि [प्राप्त] प्रसारित (कप्प) ।

पत्तइअ वि [प्रत्ययित] विश्वस्त (भग) ।

पत्तइअ वि [पत्रकित] ? अल्प पत्रवाला । २ कुत्सित पत्रवाला (रागाया १, ७—पत्र ११६) ।

पत्तउर पु [दे] वनस्पति-विशेष, एक प्रकार का गाछ (परण १—पत्र ३१) ।

पत्तच्छेज न [पत्रच्छेद्य] बाण से पत्ती वेचने की कला (ज २ टी पत्र १३७) । २ नक्काशी का काम, खोदने का काम (आचा २, १२, १) ।

पत्तट्ट वि [दे प्राप्तार्थ] ? बहु-शिक्षित, विद्वान्, अति कुशल (दे ६, ६८, सुर १,

[^०तीर्थिक] भिन्न दर्शनवाला (भग) । ^०एस पुं [^०देश] विदेश, भिन्न, अन्य देश (भवि) । ^०ओ अ [^०तस्] १ वाद में, परली—दूसरी तरफ, 'अडवीए परओ' (महा) । २ भिन्न में, इतर में (कुमा) । ३ इतर से, अन्य से (सूत्र १, १२) । ^०गणिस्य वि [^०गणीय] भिन्न गण से संबन्ध रखनेवाला । स्त्री ^०चियां (निचू ८) । ^०गिरिह्माण न [^०गर्हाध्यान] इतर की निन्दा का विचार (आउ) । ^०घाय पु [^०घात] १ दूसरे को आघात पहुँचाना । २ पुंन कर्म-विशेष, जिसके उदय से जीव अन्य बलवानो की भी दृष्टि में अजेय समझा जाता है वह कर्म, 'परघाउदया पाणी परेसिं बलीणपि होइ दुद्धरिसो' (कम्म १, ४४) । ^०चित्तणु वि [^०चित्तज्ञ] अन्य के मन के भाव को जाननेवाला (उप १७६ टी) । ^०छट्ट, छट्ट पु [^०च्छन्द] १ पर का अभिप्राय, अन्य का आशय (ठा ४, ४, भग २४, ७) । २ पराधीन, परतन्त्र (राज, मंत्र) । ^०जाणुअ वि [^०ज्ञ] १ पर को जाननेवाला । २ प्रकृत जानकार (प्राक् १८) । ^०ट्ट पु [^०र्थ] परोपकार (राज) । ^०ट्टा स्त्री [^०र्थ] दूसरे के लिए, 'कड परट्टाए' (आचा) । ^०पिडभाण न [^०निन्दाध्यान] अन्य की निन्दा का चिन्तन (आउ) । ^०णुअ देखो ^०जाणुअ (प्राक् १८) । ^०तत वि [^०तन्त्र] पराधीन, परायत्त (सुपा २३३) । ^०तिथियअ दग्गे उतिथिय (भग, सम्म ८५) । ^०तीर न [^०तीर] सामनेवाला किनारा (प्राक्) । ^०त्त । [^०त्व] १ भिन्नत्व, पार्थक्य । २ वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध गुण-विशेष (विसे २४६१) । ^०त्त अ [^०त्र] १ जन्मान्तर में, परलोक में (सुपा १०८) । २ न जन्मान्तर, ते इहमपि पत्ते नरयगह जति निमयेण' (सुपा ५२१), 'इह णोए विष दीसइ सम्पो नरयो य कि परत्तेण (वज्जा १३८) । ^०त्थ अ [^०त्र] जन्मान्तर में, 'इह परत्यावि य ज विच्छ न विहाए तपि सया भिसिद्ध' (सत्त ३७, सुर १६, ३३, उव) । ^०त्थ देखो ^०ट्ट (सुर ४, ५) । ^०त्थी स्त्री [^०स्त्री] परकीय स्त्री (प्राक् ५) । ^०टार पुन [^०टार] परकीय स्त्री (०), जो यजइ परदार सो सेवइ नो बयाइ

परदार' (सुपा ३६६), 'दव्वेण अप्पकाल गहिया वेसावि होइ परदार' (सुपा ३८०) । ^०दारि वि [^०दारिन्] परली-लम्पट, 'ता एस वसुमईए कएण परदारियाए आयाओ' (सुर ६, १७६) । ^०पक्ख वि [^०पक्ष] वैदमिक, भिन्न धर्म का अनुयायी (इ १७) । ^०परिवाइय वि [^०परिवादिक] इतर के दोषों को बोलनेवाला, पर-निन्दक (श्रौप) । ^०परिवाय पुं [^०परिवाद] १ पर के गुण-दोषों का विप्रकीर्ण वचन (श्रौप, कप्प) । २ पर-निन्दा, इतर के दोषों का परिकीर्तन (ठा १, ४, ४) । ३ अन्य के सदगुणों का अपलाप (पद्म) । ^०परिवाय पु [^०परिपात] अन्य का पातन, दोषोद्घाटन-द्वारा दूसरे को गिराना (भग १२, ५) । ^०पुट्ट देखो ^०उट्ट (पएण १७, स ४१६) । ^०भव पु [^०भव] आगामी जन्म (श्रौप, पएह १, १) । ^०भविअ वि [^०भविक] आगामी जन्म से संबन्ध रखनेवाला (भग, ठा ६) । ^०भाग पु [^०भाग] १ श्रेष्ठ अर्थ । २ अन्य का हिस्सा । ३ अत्यन्त उत्कर्ष (उप पु ६७) । ^०महेला स्त्री [^०महेला] १ उत्तम स्त्री । २ परकीय स्त्री (सुपा ४७०) । ^०यत्त देखो ^०यत्त, परयत्तो परछदो' (प्राक्) । ^०लोअ, ^०लोग पु [^०लोक] १ इतर जन, स्वजन से भिन्न (उप ६८६ टी) । २ जन्मान्तर (पएह १, २, विसे १६५१, महा, प्राक् ७५, सएण) । ^०वस वि [^०वस] पराधीन, परतन्त्र (कुमा, सुपा २३७) । ^०वाइ पु [^०वादिन्] इतर दार्शनिक (श्रौप) । ^०वाय पुं [^०वाद] १ इतर दर्शन, भिन्न मत (श्रौप) । २ श्रेष्ठ वादी (आ २३) । ^०वाय पु [^०वाच्] १ सज्जन, सुजन । २ वि श्रेष्ठ वाणीवाला (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाज] १ श्रेष्ठ गतिवाला । २ पु श्रेष्ठ अर्थ (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाय] जानकार, ज्ञानी (आ २३) । ^०वाय वि [^०पाक] १ सुन्दर रसोई बनानेवाला । २ पु रसोइया (आ २३) । ^०वाय पुं [^०पात] १ जुयाडी, जुए का खेलाडी । २ अशुभ समय (आ २३) । ^०वाय पु [^०व्याद] ब्राह्मण, विप्र (आ २३) । ^०वाय पु [^०वाय] धनी जुलाहा, धनाढ्य तन्तुवाय

(आ २३) । ^०वाय वि [^०जात] १ प्रकृत समूहवाला । २ न, सुभिक्ष समय का धान्य (आ २३) । ^०वाय पु [^०वात्त] शीघ्र समय का जलधि-तट (आ २३) । ^०वाय पु [^०व्याच] धूर्त, ठग (आ २३) । ^०वाय वि [^०पाय] अनौतिवाला (आ २३) । ^०वाय वि [^०वारु] वेदज्ञ, वेदविद (आ २३) । ^०वाय वि [^०पाट] १ दयालु, कारुणिक । २-खूब पान करनेवाला । ३ खूब सूखनेवाला । ४ पु पावट्ट काल का यवात वृक्ष । ५ मद्य-व्यसनी (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाट] सुस्थिर (आ २३) । ^०वाय वि [^०व्याट] १ श्रेष्ठ आच्छादक । २ पु वल, कपडा (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाट] १ प्रकृत वहन करनेवाला । २ पु, श्रेष्ठ तन्तु-वाय, उत्तम जुलाहा । ३ महान् पवन (आ २३) । ^०वाय वि [^०व्यागसु] १ अति बडा अपराधी, पुत्तर अपराधी (आ २३) । ^०वाय वि [^०व्याप] प्रकृत विस्तारवाला (आ २३) । ^०वाय वि [^०वारु] १ जहाँ पर प्रकृत बक-समूह हो वह स्थान । २ न मत्स्य-परिपूर्ण सरोवर (आ २३) । ^०वाय वि [^०व्याय] १ श्रेष्ठ वायुवाला । २ जहाँ पर पक्षियों का विशेष आगमन होता हो वह । ३ पु अनुदल पवन से चलता जहाज । ४ सुन्दर घर । ५ वनोद्देश, वन प्रदेश (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाय] १ जहाँ पानी का प्रकृत आगमन हो वह । २ न जलधि मुख, सप्रुद का मुँह । ३ पु महासमुद्र, महासागर (आ १३) । ^०वाय वि [^०व्याज] अन्य के पास-विशेष गमन करनेवाला । २ प्रायान-परायण (आ २३) । ^०वाय वि [^०पाय] १ अत्यन्त हीन भाग्य । २ नित्य-दरिद्र (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाप] १ प्रकृत वपनवाला । २ पु रूपक (आ २३) । ^०वाय वि [^०पाप] १ महापापी । २ हत्या करनेवाला (आ २३) । ^०वाय पु [^०पाक] १ कुम्भकार, कुम्हार । २ मुक्त जीव । ३ पहली तीन नरक-भूमि (आ २३) । ^०वाय वि [^०पाग] वृक्ष-रहित, वृक्ष-रजित (आ २३) । ^०वाय वि [^०वाज] शत्रु-नाशन (आ २३) । ^०वाय पु [^०पाट] मद्य-वृक्ष,

पण्णाग—पत्तह

१२)। °परिसह, °परीसह पु [°परिषह, °परीषह] १ बुद्धि का गर्व न करना। २ बुद्धि के अभाव में खेद न करना (भग ८, ८, पव ८६)। °भय पु [°मद] बुद्धि का अभिमान (सूत्र १, १३)। °वत वि [°वत्] ज्ञानवान् (राज)।
 पण्णाग वि [प्रज्ञ] विद्वान् (पवा १७, २७)।
 पण्णाड देखो पन्नाड परणाड (दि ६, २६)।
 पण्णाण न [प्रज्ञान] १ प्रकृत ज्ञान। २ सम्यग् ज्ञान (सम ५१)। ३ आगम, शास्त्र (आचा)। °व वि [°वत्] १ ज्ञानवान्। २ शास्त्र (आचा)।
 पण्णाराह (अप) त्रि व [पञ्चदशान्] पनरह (पिग)।
 पण्णावीसा बी [पञ्चविंशति] पचीस, बीस और पाँच, २५ (पह)।
 पण्णास बीन [दे पञ्चाशत्] पचास, ५० (दि ६, २७, पड, पि २७३, ४४५, कुमा)। देखो पन्नास।
 पण्णासग वि [पञ्चाशक] पचास वर्षों की उम्र का (तनु १७)।
 पण्णुनीस देखो पणुनीस (स १४६)।
 पण्ह पुखी [प्रश्न] प्रश्न, पृच्छा (हे १, ३५, कुमा)। बी °णहा (हे १, ३५)। (हे १, ३५)। °वाहण न [°वाहन] जैन मुनि-गण का एक कुल (सी ३८)। °वागरण न [°व्याकरण] ग्यारहवाँ जैन अग-ग्रन्थ (परह २, ५, ठा १०, विपा १, १, सम १)। देखो पसिण।
 पण्हअ अक [प्र + रनु] करना, टपकना, 'एकरो परहअइ थणो' (गा ४०६, ४६२ अ)।
 पण्हअ } पु [दे प्रस्तव] १ स्तन-धारा-
 पण्हअ } स्तन से दूध का करना (दि ६, ३, पि २३१, राज, अत ७, पड। २ करना, टपकना, 'दिट्ठिपरहव' (पिड ४८७)।
 पण्हव पु [पहन] १ अनार्य देश-विशेष। ° वि टन देश का निगामी (परह १, १—पम १४)।
 पण्हवण न [प्रमन-मन] कारण, करना (विपा १, २)।

पण्हविअ देखो पणहुअ (दि ६, २५)।
 पणहा देखो पणह।
 पण्हि पुखी [पार्थिग] फीली का अघोभाग, गुल्फ की नीचला हिस्सा, एडी (परह १, ३, दि ७, ६२)।
 पण्हिया बी [प्रशिनका] एडी, गुल्फ का अघोभाग, भित्तु परहियाओ चरणे वित्या-रिऊण बाहिरओ (वेइय ४८६)।
 पणहुअ वि [प्रस्तुत] १ क्षरित, ऋरा हुआ। २ जिसने करने का प्रारम्भ किया हो वह, 'परहुयपयोहराओ' (पउम ७६, २०, हे २, ७५)।
 पणहुइर वि [प्रस्तोत्] करनेवाला, 'हृथपफसेण जरगवोवि परहअइ दोहअणुणेण। अवलओअणपरहुइर पुत्तअणुणेहि पाविहिंसि' (गा ४६२)।
 पण्होत्तर न [प्रश्नोत्तर] सवाल-जवाब (सुर १६, ४१, कप्प)।
 पतणु देखो पयणु (राज)।
 पतार सक [प्र + तारय्] ठगना। सक पतारिअ (अभि १७१)।
 पतारग वि [प्रतारक] चक्कक, ठग (धर्मस १४७)।
 पतिण्ण } वि [प्रतीर्ण] पार पहुँचा हुआ,
 पतिन्न } निस्तीर्ण (राज, परह २, १—पत्र ६६)।
 पतुण्ण } न [प्रतुञ्ज] बलकल का बना हुआ
 पतुञ्ज } बल (आचा २, ५, १, ७)।
 पतेरस } वि [प्रत्रयोदश] प्रकृत तेरहवाँ।
 पतेलस } °वास न [°वर्षे] १ प्रकृत तेरहवाँ वर्ष। २ प्रकृत तेरहवाँ वर्ष। ३ प्रस्थित तेरहवाँ वर्ष (आचा)।
 पत्त वि [प्राप्त] मिला हुआ, पाया हुआ (कप्प, सुर ४, ७०, सुपा ३५७, जी ४४, व ४६, प्रासू ३१, १६२, १८२, गा २४१)। °काल, °थाल न [°काल] १ चैत्य-विशेष (राज)। २ वि अक्सरोचित (स ४६०)।
 पत्त न [पत्र] १ पत्ती, पत्ता, दल, पर्ण (कप्प, सुर १, ७२, जी १०, प्रामू ६२)। २ पक्ष पत्र, पाँच (एयाया १, १—पन २४)। ३ जिनपर लिखा जाता है वह, कागज, पन्ना

(स ६२, सुर १, ७२, से २, १७)।
 °च्छेज्ज न [°च्छेद्य] कला-विशेष (स ६५)। °मंत वि [°वत्] पत्र (एयाया १, १)। °रह पुं [°रथ] (पात्र)। °लेहा बी [°लेखा] से पत्र के आकृतिवाली रचना-विशेष, का एक प्रकार (अजि २८)। °वली [°वली] १ पत्रवाली लता। २ पुँह चन्दन आदि से की जाती पत्र-भेरी-नु रचना (कुप्र ३६५)। °विट न [°वृत्त] पत्र का बन्धन (पि ५३)। °विटिय [°वृत्तक, °वृत्तीय] शौन्द्रिय जन्तु-विशेष पत्र वृत्त में उत्पन्न होता एक प्रकार शौन्द्रिय जन्तु (परण १—पत्र ४५)। °विच्छुय पु [°वृष्टिक] जीव-विशेष, एक ल का वृश्चिक, चतुरिन्द्रिय जीवों की एक जाति (जीव १)। °वेंट देखो °विंट (पि ५३)। °सगडिआ बी [°शकटिका] पत्ती से भ हुई गाडी (भग)। °समिद्ध वि [°समुद्ध] प्रभूत पत्तेवाला (पात्र)। °हार पुं [°हार] शौन्द्रिय जन्तु-विशेष (परण १—पत्र ४५ उत ३६, १३८)। °हार पुं [°हार] पत्त पर निर्वाह करनेवाला वानप्रस्थ (श्रौप)।
 पत्त न [पात्र] १ भाजन (कुमा, प्रासू ३६)। २ आचार, आशय, स्थान (कुमा)। ३ दान देने योग्य गुणी लोक (उप ६४८ टी, महा)। ४ लगातार बत्तीस उपवास (सबोब ५८)। °वध पु [°बन्ध] पात्रों को बाँधने का कपडा (श्रीध ६६८)। देखो पाय = पात्र।
 पत्त वि [प्राप्त] प्रसारित (कप्प)।
 पत्तइअ वि [प्रत्ययित] विश्वस्त (भग)।
 पत्तइअ वि [पत्रकित] १ अल्प पत्रवाला। २ कुसित पत्रवाला (एयाया १, ७—पत्र ११६)।
 पत्तउर पुं [दे] वनस्पति-विशेष, एक प्रकार का गाल (परण १—पत्र ३१)।
 पत्तच्छेज्ज न [पत्रच्छेद्य] बाण से पत्ती वेधने की कला (ज २ टी पत्र १३७)। २ नक्काशी का काम, खोदने का काम (आचा २, १२, १)।
 पत्तट्ट वि [दे प्राप्तार्थे] १ बहु-शिक्षित, विद्वान्, अति कुशल (दि ६, ६८, सुर १,

परग न [दे. परक] १ तुण-विशेष, जिससे फूल शूँषे जाते हैं (आचा २, २, ३, २०, सूत्र २, २, ७)। २ धान्य-विशेष (सूत्र २, २, ११)।

परग वि [पारग] परग तुण का बना हुआ (आचा २, १, ११, ३, २, २, ३, १४)।

परगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला (तंडु ४६)।

परग्य वि [परार्थ] महर्ष, महंगा, बहुमूल्य (दस ७, ४३)।

परज्ज (अप) सक [परा + जि] पराजय करना, हराना। परज्जइ (भवि)।

परज्जिय (अप) वि [पराजित] पराजय-प्राप्त, हराया हुआ (भवि)।

परज्ज्म वि [दे] १ पर वश, पराधीन, परतन्त्र, 'जिसखया, तुच्छपरम्पवाई ते पेज्ज-दोसाणुगया परज्ज्मा' (उत्त ४, १३ वृह ४)। २ पुन. परतन्त्रता, पराधीनता (ठा १०—पत्र ५०५, भग ७, ८—पत्र ३१४)।

परट्ट देखो परिअट्ट = परिवर्त (जीवस २५२, पव १६२, कम्म ५, ५६)।

परडा ली [दे] सर्व-विशेष (दे ६, ५), 'उच्चार कुणमाणो अपाणदेसम्मि गय-परडाए, दट्टो पीडाए अमो' (सुपा ६२०)।

परदारिअ पु [पारदारिक] परली-चम्पट (पउम १०५, १०७)।

परद्ध वि [दे] १ पीडित, दु खित (दे ६, ७०, पात्र, सुर ७, ४, १६, १४४, उप पृ २२०, महा)। २ पतित। ३ भीरु, डरपोक (दे ६, ७०)। ४ व्याप्त, 'जीइ परद्धा जीवा न दोसणुणधमिणो होति' (धम्मो १४)।

परप्पर देखो परोप्पर (पि ३११, नाट—मालती १६८)।

परभवमाण देखो पराभव = परा + भू।

परभत्त वि [दे] भीरु, डरपोक (पड)।

परभाअ पुं [दे] सुरत, मैथुन (दे ६, २७)।

परम वि [परम] १ उच्छ्रुट, सर्वाधिक (सूत्र १, ६, जी . ७)। २ उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ (पंचव ४, धर्म ३, कुमा)। ३ अत्यर्थ, अत्यन्त (परह १, ३, भग, औप)। ४ प्रमाण, मुख्य (आचा, दस ६, ३)। ५ पु

मोक्ष, मुक्ति। ६ समय, चारित्र्य (आचा, सूत्र १, ६)। ७ न. सुख (दस ४)। ८ लगातार पाँच दिनों का उपवास (सवोष ५८)। ९ पु [ार्थ] १ सत्य पदार्थ, वास्तविक चीज, 'अय परमद्वे सेसे अणहु' (भग, धर्म १)। २ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १८, परह १, ३)। ३ समय, चारित्र्य (सूत्र १, ६)। ४ पुन देखो नीचे 'त्थ = अर्थ', 'पर-मट्टनिट्टिअट्टा' (पडि, धर्म २)। ५ ण देखो 'न्न (सम १५१)। ६ थ पुन [ार्थ] १ तत्त्व, सत्य, 'तत्त परमत्थ' (पात्र), 'परम-त्थदो' (अभि ६१)। २—४ देखो 'ट्ट' (सुपा २४, ११०, सण, प्रासू १६४, महा)। ६ थ न [ार्थ] सर्वोत्तम हृथियार, अमोघ अन्न (से १, १)। ७ दसि वि [दर्शिन] १ मोक्ष देखनेवाला। २ मोक्ष-मार्ग का जानकार (आचा)। ८ न [ार्थ] १ खीर, दुग्ध-प्रधान मिष्ट भोजन (सुपा ३६०)। २ एक दिन का उपवास (सवोष ५८)। ३ पय न [पद] मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति (पात्र, भवि, अजि ४०, पचा १४)। ४ पय पु [ार्थ] सर्वोत्तम आत्मा, परमेश्वर (कुमा, सुपा ८३, खय ४३)। ५ पय देखो 'पय (सुपा १२७)। ६ पय देखो 'पय (भवि)। ७ पया ली [ार्थ] मुक्ति, मोक्ष, 'सेसेसि आरुहिउ अरिकेसरिसूरी परमपय पत्तो' (सुपा १२७)। ८ बोधिसत्त पु [बोधिसत्त्व] परमार्हत, अर्हन् देव का परम भक्त (मोह ३)। ९ सखिज्ज न [सख्येय] सख्या-विशेष (कम्म ४, ७१)। १० सोमणस्सिय वि [सौमनस्सियत्त] सर्वोत्तम मनवाला, सतुष्ट मनवाला (औप, कप्प)। ११ सोमणस्सिय वि [सौमनस्सियत्त] वही अर्थ (औप, कप्प)। १२ हेला ली [हेला] उच्छ्रुट तिरस्कार (सुपा ४७०)। १३ न [ार्थ] १ लम्बा आयुष्य, बड़ी उमर (पउम १०, ७)। २ जीवित बाल, उमर (विपा १, १)। ३ ण पु [ार्थ] सर्व-सूक्ष्म वस्तु (भग, गड)। ४ हम्मिय [ार्थ] धार्मिक अमुर-विशेष, नारक जीवों को दु ख देनेवाले देवों की एक जाति (सम २८)। ५ होहिअ वि [ार्थ] अधोवधिक अर्धविज्ञान-विशेषवाला, ज्ञान-विशेष (भग)।

परमाहम्मिय वि [परमधार्मिक] सुख का अर्धलाषी (दस ४, १)।

परमिट्टि पु [परमेठिन्] १ ब्रह्मा, चतुरानन (पात्र, सम्मत ७८)। २ अर्हन्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि (सुपा ६५, आय ६८, गण ६, निता २०)।

परमुक्क वि [परामुक्क] परित्यक्त (पउम ७१, २६)।

परमुवगारि } वि [परमोपनारिन्] बड़ा
परमुवगारि } उपकार करनेवाला (सुर २, ४२, २, ३७)।

परमुह देखो परम्मुह (से २, १६)।

परमेट्टि देखो परमिट्टि (कुमा, भवि, वेद्य ४६६)।

परमेसर पु [परमेश्वर] सर्वेश्वर-सपन्न, परमात्मा (सम्मत १४४, भवि)।

परम्मुह वि [पराङ्मुख] विमुख, मुँह-फिरा, उदासीन (गाया १, २, काप्र ७२३, गा ६८८)।

परय न [परक] आधिक्य, प्रतिशय (उत्त ३४, १४)।

परलोइअ वि [पारलौकिक] जन्मान्तर-सबन्धी (आचा, सम ११६, परह १, ५)।

परवाय वि [प्रवाज] १ प्रकृत शब्द से प्रेरणा करनेवाला। २ पु. सारथि, रथ हाँकनेवाला (आ २३)।

परवाय वि [प्रारवाय] १ श्रेष्ठ गाना गाने-वाला। २ पु उत्तम गवैया (आ २३)।

परवाय पु [प्ररपाज] नाज (अन्न) भरने का कोठा, वह घर जहाँ नाज सगृहीत किया जाता है, कोठार, बखार (आ २३)।

परवाया ली [प्ररवाप] गिरि-नदी, पहाड़ी नदी (आ २३)।

परस (अप) देखो फास = स्पर्श (पिंग भवि)। १ मणि पुं [मणि] रत्न-विशेष, जिसके स्पर्श से लोहा सुवर्ण होता है (पिंग)।

परसण्ण (अप) देखो पसण्ण (पिंग)।

परसु पु [परशु] अन्न विशेष, परशय, कुठार, कुल्हाड़ी (भा ६, ३३, प्रासू ६, ६२, बाल)। १ राम पु [राम] जमदग्नि ऋषि का पुत्र, जिनने 'राम वार वि जत्रिय धृथिमी की थी (कुमा, पि २०८)।

होता है (परह १, १)। °शरीरनाम न [°शरीरनामन्] वही पूर्वोक्त प्रथं (सम ६७)।

पत्तये वि [प्रत्येक] बाह्य कारण (एदि १३०, १३१ टी)।

पत्थ सक [प्र + अर्थय्] १ प्रार्थना करना। २ अभिलाषा करना। ३ अटकाना, रोकना। पत्थेद, पत्थेति (उव, औप)। कर्म पत्थिजसि (महा)। वक्तृ पत्थत, पत्थितं, पत्थेअमाण (नाट—मालवि २५, सुपा २१३, प्रासू १२०), 'कामे पत्थेमाणा अकामा जृति दुग्गह' (उप ३५७ टी)। कवकृ पत्थिज्जत, पत्थिज्जमाण (गा ४००, सुरं १, २०, से ३, ३३, कप्प)। वृ. पत्थ, पत्थणिज्ज, पत्थेयञ्च (सुपा ३७०, सुर १, ११६, सुपा १४८, परह २, ४)।

पत्थ पु [पार्थ] १ अजुंन, मध्यम पाण्डव (स ६१२, वेणी १२६, कुमा)। २ पाञ्चाल देश के एक राजा का नाम (पजम ३७, ८)। ३ महिलपुर नगर का एक राजा (सुपा ६२६)।

पत्थ पु [प्रार्थ] १ प्रार्थन, प्रार्थना (राध)। २ दो दिनों का उपवास (सवीध ५८)।

पत्थ देवो पन्च्छ = पथ्य (गा ८१४, पजम १७, ६४, राज)।

पत्थ देवो पत्थ = प्र + अर्थय्।

पत्थ पु [प्रत्थ] १ कुडव का एक परिमाण (बृह ३, जीनस ८८, तडु २६)। २ सेतिका, एक कुडव का परिमाण (उप ५ ६६), 'पथगा उ जे पुरा प्राप्ती हीणमण्णा उ तेधुणा' (वव १)।

पत्थत देवो पत्थ = प्र + अर्थय्।

पत्थत देवो पत्था।

पत्थग देवो पत्थय (राज)।

पत्थड पु [प्रत्तर] १ रचना-विशेषवाला नमूह (ठा ३, ४—पत्र १७६)। २ भनो क बीच का अन्तराल भाग (पणए २, सम २५)।

पत्थड वि [प्रत्तव] १ विद्याया हुआ। २ देना हुआ (नग ६, ८)।

पत्थण न [प्रार्थन] प्रार्थना (महा, मवि)।

पत्थणया } स्त्री [प्रार्थना] १ अभिलाषा,
पत्थणा } वाञ्छा (आव ४)। २ याचना,
मांग। ३ विज्ञप्ति, निवेदन (भग १२, ५,
सुर १, २, सुपा २६६, प्रासू २१)।

पत्थय देवो पत्थ = पथ्य (गाया १, १)।

पत्थय वि [प्रार्थक] अभिलाषा करनेवाला (सूत्र १, २, २, १६, स २५३)।

पत्थय देवो पत्थ = प्रथ्य (उप १७६ टी, औप)।

पत्थयण न [पथ्यदन] शम्बल, पाथेय, मागं में खाने का छुराक, कलेवा (गाया १, १५, स १३०, उर ८, ७, सुपा ६२४)।

पत्थर सक [प्र + स्त्] १ विद्याना। २ कैलाना। सकृ पत्थरेत्ता (कस, ठा ६)।

पत्थर पु [प्रत्तर] पत्थर, पापाण (औप, उव, पजम १७, ३६, सिरि ३३२),

'पत्थरेणाहमो कीनो पत्थर डक्कुमिच्छई। मिगारिमो सर पप्प सरुप्पत्ति विमग्गई' (सुर ६, २०७)।

पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात (षड्)।

पत्थर देवो पत्थार (प्राप्र, सक्ति २)।

पत्थरण न [प्रत्तरण] विद्याना, 'खट्टापत्थरणय तहा एग' (धर्मवि १४७)।

पत्थरभल्लिअ न [दे] कोलाहल करना (दे ६, ३६)।

पत्थरा स्त्री [दे] चरण-घात, लात (दे ६, ८)।

पत्थरिअ पु [दे] पल्लव, कोपल (दे ६, २०)।

पत्थरिअ वि [प्रत्तृत] विद्याया हुआ, 'पत्थरिअ अत्थुम' (पाम्म)।

पत्थय देवो पत्थाव (हे १, ६८, कुमा, पजम ५, २१६)।

पत्था अक [प्र + रथा] प्रन्थान करना, प्रवास करना। वक्तृ पत्थत (से ३, ५७)।

पत्थाण न [प्रस्थान] प्रयाण, गमन (अभि ८१, अजि ६)।

पत्थार पु [प्रत्तार] १ विस्तार (उवर ६६)। २ वृणवन। ३ पल्लवादि-निर्मित शय्या। ४ पिगल-प्रमिद्ध प्रक्रिया-विशेष (प्राप्र)। ५ प्रायचित्त की रचना विशेष (ठा ६—पत्र ३७१, कम्)। ६ विनाश (पिड ५०१, ५११)।

पत्थारी स्त्री [दे] १ निकर, समूह (दे ६, ६६)। २ शय्या, विद्याना, गुजरती मे 'पथारी' (दे ६, ६६, पाम्म, सुपा ३२०)।

पत्थाव सक [प्र + स्तावय्] प्रारंभ करना। वक्तृ पत्थावअत (हास्य १२२)।

पत्थाव पु [प्रस्ताव] १ श्रवसर। २ प्रसंग, प्रकरण (हे १, ६८, कुमा)।

पत्थिअ वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण किया हो वह (से २, १६, सुर ४, १६८)। २ न प्रस्थान, गति, चाल (अजि ६)।

पत्थिअ वि [प्रार्थित] १ जिसके पास प्रार्थना की गई हो वह। २ जिस चीज की प्रार्थना की गई हो वह (भग, सुर ६, १८, १६, ६, उव)।

पत्थिअ वि [दे] शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे ६, १०)।

पत्थिअ वि [प्रार्थि] प्रार्थी, प्रार्थना करनेवाला (उव)।

पत्थिअ वि [प्रार्थित] विशेष आस्थावाला, प्रकृत श्रद्धावाला (उव)।

पत्थिअ } स्त्री [दे] बाँस का बना हुआ
पत्थिआ } भाजन-विशेष (ओष ४७६)।

'पिडग, पिडय न [पिटक] बाँस का बना हुआ भाजन-विशेष (विपा १, ३)।

पत्थिअ देवो पत्थिअ = प्रस्थित, प्रार्थित (प्राकृ २५)।

पत्थिव पु [पार्थिव] १ राजा, नरेश (गाया १, १६, पाम्म)। २ वि. धृतिवी का विकार (राजा)।

पत्थी स्त्री [दे पात्री] पात्र, भाजन, 'अंच-करवीरपत्थि व माज्जमा मह पइ विधुपत्ति' (गा २४० अ)।

पत्थीण न [दे] १ स्थूल वक्र, मोटा कपडा। २ वि. स्थूल, मोटा (दे ६, ११)।

पत्थुय वि [प्रस्तुत] १ प्रकरण-प्राप्त, प्राकर-णिक (सुर ३, १६६, महा)। २ प्राप्त, लब्ध (सूत्र १, ४, १, १७)।

पत्थुय देवो पत्थर = प्र + स्त्। सकृ. पत्थु-रेत्ता (कस)।

पत्थेअमाण }
पत्थेत }
पत्थेमाण } देवो पत्थ = प्र + अर्थय्।
पत्थेयञ्च }

पराहुत्त } वि [पराभूत] अभिभूत, हराया
पराहुत्त } हुमा (उप ६४८ टी. पाथ) ।

परि अ [परि] इत अर्थो का सूचक अव्यय—
१ सर्वतोभाव, समतात्, नारो और (गा २२,
सूत्र १, ६) । २ परिपाटी, क्रम (पिंग) ।
३ पुन पुन, फिर फिर (परह १, १,
आवक २८४) । ४ सामीप्य, समीपता,
(गडड ७७६) । ५ विनिमय, बदला, 'परि-
याण' = परिवान (भवि) । ६ अतिशय,
विशेष (स ७३४) । ७ सपूर्णाता, 'परिद्विय'
(पव ६६) । ८ बाहरपन (आवक २८४) ।
९ ऊपर (हे २, २११, सुपा २६६) । १०
शेष, बाकी । ११ पूजा । १२ व्यापकता ।
१३ उपरम, निवृत्ति । १४ शोक । १५
किसी प्रकार की प्राप्ति । १६ आख्यान । १७
सतोष-भाषण । १८ भूषण, अलंकरण ।
१९ आलिंगन । २० नियम । २१ वर्जन,
प्रतिषेध (हे २, २१७, भवि, गडड) । २२
निरर्थक भी इसका प्रयोग होता है (गडड
१०, सण) ।

परि- देखो पडि = प्रति (ठा ५, १—पत्र
३०२, परहण १६—पत्र ७७४, ७८१) ।

परि छो [दे] गीति, गीत (कुमा) ।

परि सक [क्षिप्] फेंकना । परिइ (पड्) ।

परिअज सक [परि + अञ्ज्] भांगना,
तोडना । परिअजइ (घात्वा १४३) ।

परिअत्त सक [भ्रिप्] १ आलिंगन करना ।
२ ससर्ग करना । परिअत्तइ (हे ४, १६०) ।

परिअत्त देखो पज्जत्त (परह १, ३, पठम ६५,
१६, सूत्र २, १, १५) ।

परिअत्तणा छो [परियन्त्रणा] अतिशय
यन्त्रणा (नाट—मालती २८) ।

परिअत्तिअ वि [भ्रिण्ट्] आलिंगित (कुमा) ।

परिअभिअ वि [परिजृम्भित] विकसित (से
२, २०) ।

परिअट्ट अक [परि + वृत्] पलटना, बद-
लना । वरु 'दिदो अपरिअट्टीए सहया-
रञ्ज्याए एतो' (कुम ४५, महा), परियट्ट-
माण (महा) ।

परिअट्ट सक [परि + वर्तय्] १ पलटना,
बदलना । २ आवृत्ति करना, पठित पाठ को

याद करना । ३ फिराना, घुमाना । परियट्टइ,
परियट्टेइ (भवि, उव) । हेरु 'परियट्टिउ-
माडत्तो नलिखीयुम्म ति अञ्जमयणं' (कुम
१७३) ।

परिअट्ट सक [परि + अट्] परिभ्रमण
करना, घुमाना । परिअट्टइ (हे ४, २३०) ।
सक परियट्टिवि (अप) (भवि) ।

परिअट्ट पु [दे] रजक, घोवी (दे ६, १५) ।

परिअट्ट पु [परिवर्त] १ पलटना, बदला ।

२ समय का परिणाम-विशेष, अनन्त उल्लापिणी
और भ्रवसपिणी काल (विपा १, १, सुर १६,
१४५, पव १६२) ।

परिअट्टा वि [परिवर्तक] परिवर्तन करने-
वाला (निचु १०) ।

परिअट्टण न [परिवर्तन] १ पलटना, बदला
करना (पिड ३२४, वै ६७) । २ द्विगुण,
त्रिगुण आदि उपकरण (आचा १, २, १,
१) ।

परिअट्टणा छो [परिवर्तना] १ फिर फिर
होना (परह १, १) । २ आवृत्ति, पठित
पाठ का आवर्तन (आचा २, १, ४, २, उत
२६, १, ३०, ३४, औप, ठा ५, ३) । ३
द्विगुण आदि उपकरण (पि २८६) । ४ बदला
करना (पिड ३२५) ।

परिअट्टय वि [पर्यटक] परिभ्रमण करने-
वाला, 'भिरुगिरिमयपरियट्टय' (कण्य ३६) ।

परिअट्टलिअ वि [दे] परिच्छिन्न (दे ६,
३६) ।

परिअट्टविअ वि [दे] परिच्छिन्न (पड्) ।

परिअट्टिय वि [परिवर्तित] बदलाया हुमा
(ठा ३, ४, पिड ३२३, पचा १३, १२) ।
देखो परिअत्तिअ ।

परिअड सक [परि + अट्] परिभ्रमण
करना । परिअडत्ति (आवक १३३) । वरु
परियडत्त (सुर २, २) ।

परिअडण न [पर्यटन] परिभ्रमण (स
११४) ।

परिअडि छो [दे] १ वृत्ति, वाड । २ वि,
मूर्च्छ, बेचबूफ (दे ६, ७३) ।

परिअडिअ वि [पर्यटित] परिभ्रान, नटना
हुमा (निम्मा १७) ।

परिअड्डिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया
हुमा (पड्) ।

परिअड्ड अक [परि + वृध्] बढना,
'परिअड्ड लायण' (हे ८, २२०) ।

परिअड्ड सक [परि + वर्धय्] बढाना
(हे ४, २२०) ।

परिअड्डिअ छो [परिवृद्धि] विशेष वृद्धि
(प्राक २१) ।

परिअड्डिअ वि [परिवर्धिन्, क] बढाने-
वाला, 'समण्णएवदपरियड्डिअ' (ओप) ।

परिअड्डिअ वि [पर्याढ्यक] परिपूर्ण
(ओप) ।

परिअड्डिअ वि [परिकर्षिन्, क] खींचने-
वाला, आकर्षक (ओप) ।

परिअड्डिअ वि [परिकृष्ट] लोचा हुमा,
आकृष्ट, 'जस्त समरेसु रेहइ ह्यगयममिलिअ
परिमलुगारा । ददपरियड्डियजयसिरिवेस-
कलावो ष्व खगलाया' (सुपा ३१) ।

परिअण पु [परिजन] १ परिवार, कुटुम्ब,
पुन-कलन आदि पालनीय वर्ग । २ अनुचर,
अनुभागी (गा २८३, गडड, पि ३५०) ।

परिअत्त देखो परिअत्त = विलप् । परिअत्तइ
(हे ४, १६० टी) ।

परिअत्त देखो परिअट्ट = परि + वृत् । परि-
यत्तइ (भवि), 'नदुअव परिअत्तए जीवो'
(वै ६०), परियत्तए (उना) । वरु, परिय-
त्तमाण (महा) ।

परिअत्त देखो परिअट्ट = परि + वर्तय् । सक,
परियत्तेअ (तदु ३८) ।

परिअत्त देखो परिअट्ट = परिवर्त (ओप) ।

परिअत्त वि [दे] प्रयत्, फला हुमा, 'मग्ग-
सण्णउसमवहो करपरिअत्ता ताव' (हे ४,
३६५) ।

परिअत्त नि [परियुत्त] पलटा हुमा (भवि) ।

परिअत्तण देखो परिअट्टण (गडड)

'चाइयणकरपरपरपरियत्तए निययनपरिस्सना ।
अत्ता कियिणधरत्ता मुत्तायत्ता सुयात्त व' (सुपा
६३३) ।

परिअत्तणा देनो परिअट्टणा (राज) ।

परिअत्तमाण देनो परिअत्त ।

परिअत्तमाणी छो [परिवर्तमाना] कर्म-
प्रवृत्ति विशेष, वह कर्म-प्रवृत्ति जो धन्य प्रवृत्ति

पन देखो पच । १, ०रसत्रि. व [०दशान्] पनरह, दस और पाँच, १५ (कम्म १, ४, ५२, ६८, जी २५) ।

पनय (पे. चूपा) देखो पणय = प्रणय (हे ४, ३२६) ।

पन्न देखो पण्ण = पण (सुपा ३३६, कुप्र ४०८) ।

पन्न देखो पण्ण = दे (भग, कम्म ४, ५४) ।

पन्न देखो पण्ण = प्रन्न (आचा, कुप्र ४०८) ।

पन्न वि [प्राज्ञ] १ पंडित, जानकार, विद्वान् (ठा ७, उप १५१, धर्मस ४५२) । २ वि. प्रज्ञ-सवन्धी (सूत्र २, १, ५६) ।

पन्न देखो पच । १, ०रसत्रि. व [०दशान्] पनरह, १५ (दं २२, सम २६, भग, सण) । ०रस, ०रसम वि [०दश] पनरहवाँ, १५ वा (सुर १५, २५०, पचम १५, १००) । ०रसी ली [०दशी] १ पनरहवी । २ पनरहवी तिथि (कम्प) ।

पन्न देखो पणिअ = पणय (उप १०३१ टी) ।

पन्नगणा ली [पण्याङ्गना] देर्या, वाराङ्गना (उप १०३१ टी) ।

पन्नग देखो पण्णग = पन्नग (विपा १, ७, सुर २, २३८) ।

पन्नट्टि देखो पण्णट्टि (कम्प) ।

पन्नत्त देखो पण्णत्त (खाया १ १, भग, सम १) ।

पन्नत्तरी ली [पञ्चसप्तति] पचहत्तर, ७५ (सम ८५, ति ३) ।

पन्नत्ति देतो पण्णत्ति (सुपा १५३, सति ५, महा) । ५ प्ररुट्ट ज्ञान । जिससे प्ररूपण किया जाय वह (तदु ५४) । ७ पचवाँ अग-ग्रन्थ, भगवतीय (धावक ३३३) ।

पन्नत्तु वि [प्रज्ञापयित्] आर्याता, प्रतिपादक (पि ३६०) ।

पन्नपत्तिया ली [प्रज्ञप्रत्यया] देखो पुन्नपत्तिया (कम्प) ।

पन्नपन्नइम देतो पणपन्नइम (पि ४४६) ।

पन्नय देतो पण्णग (पाम) । ०रिउ पु [०रिपु] गण्ट पनी (पाम) ।

पन्नया ली [पन्नगा] भगवान् धर्मनायजी को शान्त-देवी (सति १०) ।

पन्नव देखो पण्णव । पन्नवेइ (उव) । कर्म पन्नविजइ (उव) । वरु पन्नवयत (सम्म १३४) । सङ्क. पन्नवेऊण (पि ५८५) ।

पन्नवग वि [प्रज्ञापक] प्रतिपादक, प्ररूपक (कम्म ५, ८५ टी) ।

पन्नवण देखो पण्णवण (सुपा २६६) ।

पन्नवणा देखो पण्णवणा (भग, परण १, ठा ३, ४) ।

पन्नवय देखो पण्णवग (सम्म १६) ।

पन्नवयत देखो पन्नव ।

पन्ना देखो पण्णा = प्रन्ना (आचा, ठा ४, १, १०) ।

पन्ना देखो पण्णा = दे (पव ५०) ।

पन्नाड सक [मृद्] मर्दन करना । पन्नाडइ (हे ४, १२६) ।

पन्नाडिअ वि [मृदित] जिनका मर्दन किया गया हो वह (पाम, कुमा) ।

पन्नाण देखो पण्णाण (आचा, पि ६०१) ।

पन्नारस (अप) वि व. [पञ्चदशान्] पनरह, १५ (भवि) ।

पन्नास देखो पण्णास (सम ७०, कुमा) ।

ली. ०सा (कम्प) । ०इम वि [०तम] पचासवाँ, ५० वाँ, (पचम ५०, २३) ।

पन्ह देखो पण्ह (कम्प) ।

पन्ह (अप) देखो पण्हअ = दे प्रस्व (भवि) ।

पपच देखो पवच (सुपा २३५) ।

पपलीण वि [प्रपलायित] भागा हुआ (पि ३४६, ३६७, नाट—मृच्छ ५८) ।

पपिआमह पु [प्रपितामह] १ ब्रह्मा, विधाता (राज) । २ पितामह का पिता, परदादा (धर्मस १४६) ।

पपुत्त पु [प्रपुत्र] पौत्र, पुत्र का पुत्र, पोता (सुपा ४०७) ।

पपुत्त } पु [प्रपौत्र] पौत्र का पुत्र, पोते पपोत्त } का पुत्र, पपोता (विसे ८६२, राज) ।

पप सक [प्र + आप्] प्राप्त करना । पपोइ, पपोति (पि ५०४, उत १४, १४) ।

पपोदि (श्री) (पि ५०४) । सङ्क पप (परण १७, शोध ५५, विसे ५५१) । कृ पप (विसे २६८७) ।

पपग न [दे पर्यक] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, २, ६) ।

पपड } पुली [पर्यट] १ पापड, मूँग या पपडग } उद की बहुत पतली एक प्रकार की रोटी (पव ३७, भवि) । २ पापड के आकारवाला शुष्क मृत्खण्ड (निउ १) । ०पायय पु [पाचक] नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ३०) । ०मोदय पु [मोदक] एक प्रकार की मिष्ठ वस्तु (परण १७—पत्र ५३३) ।

पपडिया ली [पर्यटिका] तिल आदि की बनी हुई एक प्रकार की खाद्य वस्तु (परण १, पिउ ५५६) ।

पपल देखो पपड (नाट—विक्र २१) ।

पपपीअ पु [दे] चातक पत्ती, पपीहा या पपीहण (दे ६, १२) ।

पपुअ वि [प्रप्लुत] १ जलाद्र, पानी से भीजा हुआ (परह १, १, खाया १, ८) । २ व्यात, 'घयपण्यवजणइ च' (पव ४ टी) । ३ न. कूदना, लॉधना (गठ १२८) ।

पपुइ } देखो पप । पपुति }

पपफंदण न [प्रस्पन्दन] प्रचलन, फरकना (राज) ।

पपफाड पु [दे] अग्नि-विशेष (दे ६, ६) ।

पपिफडिअ वि [दे] प्रतिफलित (दे ६, २२) ।

पपुअ वि [दे] १ दीर्घ, लम्बा । २ उड्डीय-मान, उडता (दे ६, ६४) ।

पपुइ अक [प्र + स्फुट्] १ खिलना । २ फूटना । पपुइइ (प्राक ७४) ।

पपुइअ पु [प्रस्फुटित] नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २६) ।

पपुय देखो पपुअ, 'बाहपपुयच्छो' (सुख २, २६) ।

पपुअ अक [प्र + स्फुर] १ फरकना, खिलना । २ कांपना । पपुअइ (से १५, ७७, गा ६४७) ।

पपुअरिअ वि [प्रस्फुरित] फरका हुआ (दे ६, १६) ।

पपुअ अक [प्र + फुल्ल] विकसना । वरु. पपुअहत (रंभा) ।

पपुअ वि [प्रफुल्ल] विकसित, खिला हुआ (खाया १, १३, उप पु ११४, पचम ३, ६६, सुर २, ७६, पड्, गा ६३६, ६७०),

परिणामो' (विसे ६२३, सुर १३, १२४),
'तेवि पयट्ठा काउ सरीरपरिकम्पण एव'
(कुप २७१, कप्प; उव) । २ सस्कार का
कारण-भूत शास्त्र (एदि) । ३ गणित-
विशेष । ४ संख्यान-विशेष, एक तरह की
गणना (ठा १०—पत्र ४६६) । ५ निष्पादन
(पत्र १३३) ।

परिकम्पणा छी. ऊपर देखो, 'खेतमख्व
निच्च न तस्स परिकम्पणा नय विण्णासो'
(विसे ६२४, सम्म ५४, सबोध ५३,
उपप ३४) ।

परिकम्पिय वि [परिकर्मित] परिकर्म-
विशिष्ट, सस्कारित (कप्प) ।

परिकर देखो परिअर = परिकर (पिग) ।

परिकलण न [परिकलन] उपभोग, 'भमर-
परिकलणखमकमलभूसियसरो' (सुपा ३) ।

परिकल्लिअ वि [परिकलित] १ युक्त, सहित
(सिदि ३८१) । २ व्याप्त (सम्मत् २१५) ।

३ प्राप्त, 'अजलिपरिकलियजत्तं व गलइ इह
जोय' (धर्मवि २५) ।

परिकवल्लणा छी [परिकवल्लना] भक्षण,
'हरियपरिकवल्लणापुहुगोसकुला' (सुपा ३) ।

परिकविल वि [परिकविल] सर्वतोभाव से
कपिल बणवाला (गउड) ।

परिकविस वि [परिकविस] अतिशय कपिस
रंगवाला (गउड) ।

परिकसण न [परिकण] खोचाव (गउड) ।

परिकरुह सक [परि + कथय] प्ररूपण
करना, कहना । परिकहेइ (उवा), परिकहुहु
(कम्म ६, ७५) । कर्म परिकहिउअइ (पि
५४३) । हेइ परिकहेइ (औप) ।

परिकरुहण न [परिकथन] आख्यान, प्ररूपण
(सुपा २) ।

परिकरुहणा छी [परिकथना] ऊपर देखो
(भावम) ।

परिकरुहा छी [परिकथा] १ वाचनीत । २
वर्णन (पिड १२६) ।

परिकरुहिय वि [परिकथित] प्ररूपित,
घास्यात (महा) ।

परिनिण्ण देखो परिकिन्न, 'वेडियाचक्कवात-
परिनिण्णा' (उवा) ।

परिकिञ्चित्तिअ वि [परिकीञ्चित] व्यावर्णित,
श्लाघित (श्रु ११०) ।

परिकिञ्ज वि [परिकीर्ण] १ परिवृत, वेष्टित,
'नियपरियणपरिकिन्नो' (धर्मवि ५४) । २
व्याप्त (सुर १, ५६) ।

परिकिल्ल वि [परिकिल्लन्त] विशेष खिन्न
(उप २६४ टी) ।

परिकिल्लेस सक [परि + क्लेशय] दु खी
करना, हैरान करना । परिकिल्लेसति (भग) ।
सक परिकिल्लेसित्ता (भग) ।

परिकिल्लेस पुं [परिक्लेश] दु ख, वाधा,
हैरानी (सूत्र २, २, ५५, औप, स ६७५,
धर्मस १००४) ।

परिकील्लिअ वि [परिकील्लिअ] अतिशय क्लेश
करनेवाला (सण) ।

परिकुठिय वि [परिकुठित] जडीभूत
(विसे १८३) ।

परिकुडिल वि [परिकुडिल] विशेष वक्र
(सुर १, १) ।

परिकुद्ध वि [परिकुद्ध] अत्यन्त कुपित
(धर्मवि १२४) ।

परिकुविय वि [परिकुपित] अतिशय क्रुद्ध
(आया १, ८, उव; सण) ।

परिकोमल वि [परिकोमल] सर्वथा कोमल
(गउड) ।

परिकत्त वि [परिकत्तन्त] पराक्रम-युक्त (सूत्र
१, ३, ४, १५) ।

परिकम्म सक [परि + कम्म] १ पांव से
चलना । २ समीप मे जाना । ३ पराभव
करना । ४ अक पराक्रम करना । परिकम्मदि
(कविम ४६) । परिकम्मनि (कविम ५५) ।
परिकम्मेष (शौ) (पि ४८१) । वक्र परिकम्मत
(नाट) । क परिकम्मियन्न (आया १,
५—पत्र १०३) । सक परिकम्म (सूत्र १,
४, १, २) ।

परिकम्म देखो परिकम्म = पराक्रम (आया १,
१, सण; उल १८, २४) ।

परिकम्मिअ देखो परिकम्मिय (सुपा २०८) ।

परिकम्म देलो परिकम्म = परि + कम्म ।
परिकम्मदि (पि ४८१, वि ८७) ।

परिकम्म सक [परि + ईक्ष] परगना,
परीक्षा करना । परिकम्मदि, परिकम्मर, परिकम्मि,
परिकम्मिअ

परिकम्मउ (भवि, महा; वज्जा १५८, स
४५७) । वक्र परिकम्मत, परिकम्ममाण
(औप ८० भा, आ १४) । सक, परिकम्मिय
(उव) । क, परिकम्मियन्न (काल) ।

परिकम्मअ वि [परिकम्म] परीक्षा करनेवाला
(सुपा ४२७, आ १४) ।

परिकम्मअ वि [परिकम्म] आहत, जिसको
घाव हुआ हो वह (से ८, ७३) ।

परिकम्मअ पुं [परिकम्म] १ क्रमश हासि,
'बहुलपक्कवदस्स जोएहापरिकम्मओ विअ'
(चार ८) । २ क्षय, नाश (गउड) ।

परिकम्मण न [परिकम्मण] परीक्षा (स ४६६,
कप्प, सुपा ४४६, आया १, ७ भवि) ।

परिकम्मणा छी [परिकम्मणा] परीक्षा (पउम
६१, ३३) ।

परिकम्ममाण देखो परिकम्म ।

परिकम्मअ अक [परि + खल्ल] स्वर्णित
होना । वक्र परिकम्मलत (से ४, १७) ।
परिकम्मल्लिअ वि [परिकम्मल्लित] स्वर्णना-
प्राप्त (पि ३०६) ।

परिकम्मणा छी [परिकम्मणा] परख, जांच (नाट—
मालवि २२) ।

परिकम्मिअअ वि [दे] परिकोण (पट्) ।
परिकम्माम वि [परिकम्माम] अतिशय कृप
(उतर ७२, नाट—रत्ता ३) ।

परिकम्मिअ वि [परिकम्मिअ] परखनेवाला,
परीक्षक (आ १४) ।

परिकम्मिअ वि [परिकम्मिअ] १ वेष्टित, घेरा
हुआ (औप, पात्र, से १, ५२, वसु) । २ सर्वथा
खिन्न (भावम) । ३ चारो ओर से व्याप्त
(राय) ।

परिकम्मिअ वि [परिकम्मिअ] जिसकी परीक्षा
की गई हो वह (प्रासु १५) ।

परिकम्मिअ सक [परि + क्षिप्] १ बज्ज
करना । २ तिरप्यार करना । ३ व्याप्त
करना । ४ फँकना, 'एयं पु जरामण
परिकम्मिअअ धग्गुरा व मय्कह' (पट् ३३,
जीवस १८६) । कर्म परिकम्मिअयोगो (पि
३१६) ।

परिकम्मिअ वि [परिकम्मिअ] फँका हुआ
(हम्मोर ३२) ।

परिकम्मिअ वि [परिकम्मिअ] घेरा, परिधि (नाट
सम ५६, कम्म औप) ।

पभसण न [प्रभ्रंशन] स्खलना (धर्मस १०७६)।

पभकत पु [प्रभक्रान्त] १—२ विद्युत्कुमार देवो के हरिकान्त और हरिस्सह नामक दोनो इन्द्रो के लोकपालो के नाम (ठा ४, १—पत्र १६७, इक)।

पभण सक [प्र + भण्] कहना, बोलना। पभणइ (महा, सण)।

पभणिय वि [प्रभणित] उक्त, कथित (सण)।

पभम सक [प्र + भ्रम्] भ्रमण करना, भटकना। पभमसि (श्रु १५३)।

पभव अक्र [प्र + भू] १ समर्थ होना, पहुँचना। २ होना, उत्पन्न होना। पभवइ (पि ४७५)। वक्क पभवत (सुपा ८६, नाट—विक्र ४५)।

पभव पु [प्रभव] १ उत्पत्ति, जन्म, प्रसूति, प्रसव (ठा ६, वसु)। २ प्रथम उत्पत्ति का कारण (एदि)। ३ एक जैनमुनि, जम्बु-स्वामी का शिष्य (कम्प, वसु, एदि)।

पभवा स्त्री [प्रभवा] तृतीय वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८६)।

पभविय वि [प्रभूत] जो समर्थ हुआ हो, 'सा विज्जा सिद्धमुए उदरगणुत्तमि पभविया नेव' (धमनि १२३)।

पभा स्त्री [प्रभा] १ कान्ति, तेज (महा, धर्मस १३३३)। २ प्रभाव, 'निज्जुज्जोया रम्मा, नयपभा ते विरायति' (देवेन्द्र ३२०)।

पभाइअ पुन [प्रभात] १ प्रात काल, सुवह पभाइ (पउम ७०, ५६, सुर ३, ६६, महा, म २४४)। २ वि प्रकाशित, रयणीए पभायाए' (उप ६४८ टी)। 'तणय वि [°भयन्निन्] प्रामातिक, प्रभात-सम्बन्धी, सुवह वा (सुर ३, २४८)।

पभार पु [प्रभार] प्रकृत भार (सम १५३)।

पभाउ देखो पहाव = प्र + भावय्। पभावेइ, पभाउति (उप, पव १४८)। वक्क पभावित (सुपा ३८६)।

पभाउ देणो पहाव-प्रभाव (स्वप्न ६८)।

पभाउई स्त्री [प्रभावती] १ उत्तिसव जिन-देव की माता का नाम (सम १५१)। २ उदर की एक पत्नी का नाम (पउम ७४,

११)। ३ उदायन राजषि की पटरानी और चेडा नरेश की पुत्री का नाम (पडि)। ४ बलदेव के पुत्र निषध की भार्या (आचू १)। ५ राजा बल की पत्नी (भग ११, ११)।

पभावग वि [प्रभावक] प्रभाव बढ़ानेवाला, शोभा की वृद्धि करनेवाला (आ ६, द्र २३)। २ उन्नति-कारक। ३ गौरव जनक (कुप १६८)।

पभावण न [प्रभावन] नीचे देखो (श्रु ५)।

पभावणा स्त्री [प्रभावना] १ महात्म्य, गौरव। २ प्रसिद्धि, प्रख्याति (याया १, १६—पत्र १२२, आ ६, महा)।

पभावय वि [प्रभावक] गौरव बढ़ानेवाला (सबोध ३१)।

पभावाल पुं [प्रभावाल] वृक्ष-विशेष (राज)।

पभावित देखो पभाव = प्र + भावय्।

पभास सक [प्र + भाष्] बोलना, भाषण करना। पभासति (विसे ४६६ टी)। वक्क पभासत, पभासयत, पभासमाण (उप ४ २३, पउम ५५, १८, ८६, १०)।

पभास अक्र [प्र + भास्] प्रकाशित होना। पभासति (सुज १६)। भूका—पभासिसु (भग, सुज १६)। भवि पभासिस्सति (सुज १६)। वक्क पभासमाण (कम्प)।

पभास सक [प्र + भासय्] प्रकाशित करना। प्रभासिइ (भग)। पभासति (सुज ३—पत्र ६४)। वक्क पभासयत, पभासे-माण (पउम १०८, ३३, रयण ७५, कम्प, उवा, श्रौप, भग)।

पभास पु [प्रभास] १ भगवान् महावीर के एक गणधर का नाम (सम १६, कम्प)। २ एक विकटापाती पर्वत का अधिष्ठाता देव (ठा २, ३—पत्र ६६)। ३ एक जैन मुनि का नाम (धर्म ३)। ४ एक चित्रकार का नाम (धम्म ३१ टी)। ५ न, तीर्थ विशेष (ज ३, महा)। ६ देव-विमान-विशेष (सम १३, ४१)। °तित्थ न [°तीर्थ] तीर्थ-विशेष, भारतवर्ष की पश्चिम दिशा में स्थित एक तीर्थ (इक)।

पभासा स्त्री [प्रभासा] अहिंसा, दया (परह २, १)।

पभासिय वि [प्रभापित] उक्त, कथित (सुप्र १, १, १, १६)।

पभासेमाण देवो पभास = प्र + भासय्।

पभिइ देखो पभिइ (द्र ५५)।

°पभिइ वि व. [°प्रभृति] इत्यादि, वगैरह (भग, उवा, महा)।

पभिइ } अ [प्रभृति] प्रारम्भ कर, (वहा पभिई } से) शुरू कर, लेकर, 'बालभावाओ पभीइ } पभिइ' (सुर ४, १६७, कम्प, पभीइ } महा, स ७३६, २७५ टि)।

पभीय वि [प्रभीत] अति भीत, अत्यन्त डरा हुआ (उत्त ५, ११)।

पभु पुं [प्रभु] १ इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ७)। २ स्वाभी, मालिक (पउम ६३, २६, बृह २)। ३ राजा, वृप, 'पभू राया अणुपभू जुवराया' (निचू २)। ४ वि. समर्थ, शक्तिमान् (आ २७, भग १५, उवा, ठा ४, ४)। ५ योग्य, लायक, 'पभुति वा जोग्गोति वा एगद्धा' (निचू २०)।

पभुज सक [प्र + भुज्] भोग करना। पभुजेदि (शौ) (द्रव्य ६)।

पभुति (वै) देखो पभिइ (कुमा)।

पभुत्त वि [प्रभुत्त] १ जिसने खाने का प्रारम्भ किया हो वह (सुर १०, ५८)। २ जिसने भोजन किया हो वह (स १०४)।

पभूइ } देखो पभिइ (पउम ६, ७६, स पभूइ } २७५)।

पभूय वि [प्रभूत] प्रचुर, बहुत (भग, पउम ५, ५, याया १, १, सुर ३, ८१, महा)।

पभोय (अप) देखो उवभोग, 'भोय-पभोयमाणु ज किञ्च' (भवि)।

पमइल वि [प्रमलिन] अति मलिन (याया १, १)।

पमक्खण न [प्रमृक्षण] १ अभ्यञ्जन, विले-पन। २ विवाह के समय किया जाता एक तरह का उवटन (स ७४)।

पमक्खिअ वि [प्रमृक्षित] १ विलिप्त। २ विवाह के समय जिसको उवटन किया गया हो वह (वसु, सम ७५)।

पमज्ज सक [प्र + मृज्, मार्ज्] मार्जन करना, साफ-सुथरा करना, झाड़ू आदि से धूल वगैरह को दूर करना। पमज्जइ (उव,

परिघट्ट सक [परि + घट्ट] आघात करना ।
कवक. परिघट्टिज्जंत (महा) ।

परिघट्टण न [परिघट्टन] आघात (बजा
३८) ।

परिघट्टण न [परिघट्टन] निर्माण, रचना
(निघ्न १) ।

परिघट्टिय वि [परिघट्टित] आहत, ताडित
(जीव ३) ।

परिघट्ट वि [परिघट्ट] १ जिसका घर्षण
क्रिया गया हो वह, मिसा हुआ, 'मदरयडपरि-
घट्ट' (हे २, १७४) ।

परिघाय देखो परीघाय (राज) ।

परिघास सक [परि + घासय्] जिमाना,
भोजन करना । हेक परिघासेअ (आचा) ।

परिघासिय वि [परिघासिन्] परिघर्ष युक्त,
'रयसा वा परिघासियणुवे भवति' (आचा २,
१, ३, ५) ।

परिघुन्मिर वि [परिघूर्णित] शनै शनै
कांपता हिलता, डोलता (पउम ८, २८३, गा
१५८) ।

परिघेतञ्च
परिघेतञ्च
परिघेत्तु
परिघेत्तूण } देखो परिरोण्ह ।

परिघोल सक [परि + घूर्ण्] १ डोलना ।
२ परिभ्रमण करना । वक्क परिघोलत,
परिघोलेमाण (से १, ३३, औप, णाय १,
४—पत्र १७) ।

परिघोलण न [दे, परिघोलन] विचार (ठा
४, ४—पत्र २८३) ।

परिघोलिद वि [परिघूर्णित] डोलनेवाला
(गड्ड) ।

परिचअ देखो परियय = परिचय (नाट—
शकु ७७) ।

परिचअ देखो परिचअ । सक परिचइऊण,
परिचइय (महा) ।

परिचचल वि [परिचञ्चल] अतिशय चपल
(वे १४) ।

परिचत्त देखो परिचत्त (महा, औप) ।

परिचरणा जो [परिचरणा] सेवा, भक्ति
(सुपा १५६) ।

परिचल सक [परि + चल्] विशेष चलना ।
परिचलइ (पिग) ।

परिचलिअ वि [परिचलिन] विशेष चला
हुआ (दे ५, ६) ।

परिचारअ वि [परिचारक] सेवा करनेवाला,
सेवक (नाट—मालवि ६) । स्त्री, 'रिआ
(नाट) ।

परिचारणा जो [परिचारणा] मैथुन प्रवृत्ति
(ठा ५, १) ।

परिचित्त सक [परि + चिन्तय्] चिन्तन
करना, विचार करना । परिचित्तइ, परिचित्ते
(सण, उव) । कर्म परिचित्तियइ (अप) (सण) ।
वक्क. परिचित्तत, परिचित्तयत (सण, पउम
६६, ४) ।

परिचित्तिय वि [परिचिन्तित] जिसका
चिन्तन किया गया हो वह (सण) ।

परिचित्तिर वि [परिचिन्तयित्] चिन्तन
करनेवाला (सण) ।

परिचिट्ठ अक [परि + स्था] रहना, स्थिति
करना । परिचिट्ठइ (सण) ।

परिचिय वि [परिचित्त] ज्ञात, जाना हुआ,
चिहा हुआ, पहिचाना हुआ (औप) ।

परिचुअ देखो परिचव । परिचुविज्जमाण
(औप) । सक परिचुविअ (अभि १५०) ।

परिचुअण देखो परिचवण (पउम १६, ७६) ।

परिचुविय वि [परिचुम्भित] जिसका चुम्बन
किया गया हो वह, 'परिचुवियनहग्ग' (उप
५६७ टी) ।

परिचअ सक [परि + त्यज्] परित्याग
करना, छोड देना । परिचअइ, परिचअह
(महा, अभि १७७) । वक्क परिचअत (अभि
१३७) । संक परिचअअ, परिचअज्ज,
परिचअऊण (पि ५६०, उत ३५, २,
राज) । हेक परिचअत्तए, परिचअत्तु (उवा,
नाट) ।

परिचत्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग
किया गया हो वह (से ८, २०, सुर २,
१२०, सुपा ४१८, नाट—शकु १३२) ।

परिचयण न [परित्यजन] परित्याग (स
३३) ।

परिचइ वि [परित्यागिन्] परित्याग करने-
वाला (औप, अभि १४०) ।

परिचण्ण पु [परित्याग] त्याग, मोचन
परिचण्ण } (पचा ११, १४, उप ७६२,
औप, भग) ।

परिचण्णय वि [परित्याग्य] त्याग करते लायक,
'अण्णोपि अमुहजोगा सोहिपयाणे परिचण्णय'
(सवोच ५४) ।

परिचिअ वि [दे] उक्लिप्त, ऊपर फेंका हुआ
(पट्ट) ।

परिचिअ देखो परिचिय (उप १४२ टी) ।

परिच्छ देखो परिक्ख, 'मणवयणकायणुतो
सज्जो मरण परिच्छज्जा' (पक्क ६८, पिड
३०), परिच्छति (पिड ३१) ।

परिच्छण वि [परीक्षक] परीक्षा-कर्ता (धम्म
५१६) ।

परिच्छण्ण वि [परिच्छन्न] १ आच्छादित,
परिच्छन्न } ढका हुआ (महा) । २ परिच्छद
युक्त, परिवार-सहित (वव ४) ।

परिच्छय वि [परीक्षक] परीक्षा करनेवाला
(सम्म १५५) ।

परिच्छा जो [परीक्षा] परख, जांच, आजमाइ
(ओच ३१ भा, विसे ८४८, उप पु १०८) ।

परिच्छअ देखो परिक्खिय (आ १६) ।

परिच्छद सक [परि + छिद्] १ निश्च
करना, निर्णय करना । २ काटना, क
डालना । परिच्छदइ (धम्मस ३७१) । स
'परिच्छिदिय वाहिरग च साय निकम्मद
इह मच्चिहं' (आचा—टि, पि ५०
५६१) ।

परिच्छण्ण वि [परिच्छन्न] १ काटा हुआ
'नय सुहताहा परिच्छण्ण' (पक्क ६५) ।
निर्णीत, निश्चित (आव ४) ।

परिच्छित्ति जो [परिच्छित्ति] १ परि
निर्णय । २ परीक्षा, जांच (उप ८६५) ।

परिच्छिन्न देखो परिच्छण्ण (स ५
सम्मत्त १४२) ।

परिच्छिद वि [दे परिक्षिन्] १ र्व
फेंका हुआ (दे ६, २५, नमि ६) । २
त्यक्त (से १३, १७) ।

परिच्छेअ पु [परिच्छेद] निर्णय,
(विसे २२४४, स ६६७) ।

परिच्छेअ वि [दे परिच्छेक] लघु, छोटा
(औप) ।

पमिल्ल अरु [प्र + मील्] विशेष सकोच करना, सकुचना। पमिल्लइ (हे ४, २३२, प्राप्र)।

पमीय^० देखो पमा = प्र + मा।

पमील देखो पमिल्ल। पमीलइ (हे ४, २३२)।

पमुइअ वि [प्रमुदित] हर्ष-प्राप्त, हर्षित (श्रीप, जीव ३)।

पमुच मक [प्र + मुच्] छोडना, परित्याग करना। पमुचति (उव)। कर्म पमुचचइ (वि ५४२)। भवि पमोक्खसि (आचा)। वक, पमुचमाण (राज)।

पमुक्क नि [प्रमुक्त] परित्यक्त (हे २, ६७, पट्)।

^०पमुग्ग देखो ^०पमुह (सुपा १०, गु ११, जो १०)।

पमुच्छिय पु [प्रमुच्छित] नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २७)।

पमुत्त देवो पमुक्क (वि ५६६)।

पमुदिय देवो पमुइअ (सुर ३, २०)।

पमुद्व वि [प्रमुग्ग] अत्यन्त मुग्ध (नाट—मालती ४४)।

पमुह वि [प्रमुह] १ तल्लीन दृष्टिवाला, 'एगणमुह' (आचा)। २ पु. अह-विशेष, ज्योतिष्क देव विशेष (ठा २, ३)। ३ न प्रट्ट आरम्भ, आदि, त्रापाव, 'किपाणफल-सिच्छो भोगा पमुहे हवति गुणमहुवा' (पठम १०८, ३१, पाप्र)।

^०पमुह नि व [^०प्रमुह] १ वगैरह, आदि। २ प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य (श्रीप, प्रासू १६६)।

पमुहर नि [प्रमुहर] पाचाल, बकवादी (उत्त १७, ११)।

पमेउल वि [प्रमेदग्गिन्] जिम्मे शरीर में चर्मी बढ़त हा बह, 'सुले पमेदने वक्के पाडेमि ति यो वए' (सस ७, २२)।

पमेय वि [प्रमेय] प्रमाण नियम, सत्य-पदार्थ (पमा ११६०)।

पमेह पु [प्रमेह] रोग विशेष, मेह रोग, मूद-रोग, बट्भूतता (विठु १)।

पमोअ पु [प्रमोद] १ आनन्द, सुखी, हर्ष (सुर १, ७८, दा, एदि)। २ राधास-वरा के एव राजा का नाम, एक लवण-पति (पठम ५ २६३)।

पमोक्ख^० देखो पमुच्च।

पमोक्ख पुन [प्रमोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण (सुप्र १, १०, १२)। २ प्रत्युत्तर, जवाब, 'नो सचाएइ किचिवि पमोक्खमक्खाइउं' (भग)।

पमोक्खण न [प्रमोचन] परित्याग, 'कठ-कठिय अवासिय वाहपमोक्खण करेइ' (राया १, २—पत्र ८८)।

पमोयणा ली [प्रमोदना] प्रमोदन, प्रमोद, आहाद, आनन्द (वेइय ४११)।

पम्मलाअ अक [प्र + म्लै] अधिक म्लान होना। पम्मलाअदि (शौ)। (वि १३६, नाट—मालती ५३)।

पम्माअ } वि [प्रम्लान] १ विशेष म्लान, पम्माइअ } अत्यन्त गुरभाया हुआ, 'पम्माअ-सिरोसाइ व। जह से जायाइ अगाइ' (गा ५६, गा ५६ टि)। २ शुद्ध, 'वसहा य जाययामा, गामा पम्मायचिक्खल्ला' (धर्मवि ५३)।

पम्माण वि [प्रम्लान] १ निस्तेज, गुरभाया हुआ। २ न फीकापन, गुरभाना, 'पम्हा (? म्मा) एल्लएल्लिगो' (अणु १३६)।

पम्मि पु [दे] पाणि, हाथ, कर (पड्)।

पम्मुक्क देखो पमुक्क (हे २, ६७, पट्, कुमा)।

पम्मुह वि [प्राइमुख] पूर्व की ओर जिसका मुँह हो वह (भवि, वज्जा १६४)।

पम्हु पुन [पद्मन्] १ अक्षि-लौम, बरखनी, शील के बाल (पाप्र)। ३ पल आदि का केसर, किजल्क (उवा, भग, विपा १, १)।

३ सूत्र आदि का अत्यल्प भाग। ४ पल, पाँच (हे २, ७४, प्राप्र)। ५ केश का अग्र-भाग (से ६, २०)। ६ अग्र-भाग, 'राग्रएह-आसएपइत्तपत्तएपम्हु' (से १५, ७३)।

७ महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रदेश (ठा २, ३, इक)। ८ न. एक देव-विमान (सम १५)। ^०कन न [^०कान्त] एक देव-विमान का नाम (सम १५)। ^०कूड पु [^०कूट] १ पर्वत-विशेष (राज)। २ न

ब्रह्मलोक नामक देवलोक का एक देव-विमान (सम १५)। ३ पर्वत-विशेष का एक शिखर (ठा २, ३, ६)। ^०ज्मय न [^०ध्यज]

देव-विमान-विशेष (सम १५)। ^०पभ न [^०प्रभ] ब्रह्मलोक का एक देवविमान (सम १५)। ^०लेस, ^०लेस्स न [^०लेश्य] ब्रह्मलोक-स्थित एक देव-विमान (सम १५, राज)। ^०वण्ण न [^०वर्ण] वही पूर्वोक्त अर्थ (सम १५)। ^०लिंग न [^०शृङ्ग] वही अर्थ (सम १५)। ^०सिट्ठ न [^०सृष्ट] वही पूर्वोक्त अर्थ (सम १५)। ^०वत्त न [^०वर्त्त] वही अर्थ (सम १५)।

पम्हु देखो पठम (पएह १, ४—पत्र ६७, ७८, जीव ३)। गंध वि [^०गन्ध] १ कमल की गन्ध। २ वि. कमल के समान गन्धवाला (भग ६, ७)। ^०लेस वि [^०लेश्य] पद्मा नामक लेश्यावाला (भग)। ^०लेसा ली [^०लेश्या] लेश्या-विशेष, पाँचवी लेश्या, आत्मा का शुभतर परिणाम-विशेष (ठा ३, १, सम ११)। ^०लेस्स देखो ^०लेस (पएण १७—पत्र ५११)।

पम्हुअ सक [प्र + स्मृ] भूल जाना, विस्मरण होना। पम्हुअइ (प्राक ६१)।

पम्हुगावई ली [पद्म-गावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, ३, इक)।

पम्हुट्ट वि [प्रस्मृत] १ विस्मृत (से ४, ४२)। २ जिसको विस्मरण हुआ हो वह, 'कि पम्हुट्ट मिह अह तुह चलगुण्णएणतिवह-आपडिजएण (से ६, १२)।

पम्हुट्ट वि [दे] १ प्रअट्ट, विलुप्त (से ४, ४२)। २ फँका हुआ, प्रक्षिप्त, 'पम्हुट्ट वा परिट्टविय ति वा एणट्ट' (वव १)।

पम्हुय वि [पद्मज] १ पद्म से उत्पन्न। २ न एक प्रकार का सूता (पंचमा)।

पम्हर पु [दे] आमृत्यु, अकाल-मरण (दे ६, ३)।

पम्हल वि [पद्मल] पद्म युक्त, सुंदर अक्षि-लौमवाला (हे २, ७४, कुमा, पट्, श्रीप, गउड, सुर ३, १३६, पाप्र)।

पम्हल पुं [दे] किजल्क, पल आदि का केसर (दे ६, १३, पट्)।

पम्हलिय वि [दे पद्मलित] धवलित, सफेद किया हुआ, 'सायएणजो-हापवाहपम्ह-लियचउदिसाभोओ' (स ३६)।

परिणममाण (ठा ७, णाया १, १—पत्र ३१) ।

परिणमण न [परिणमन] परिणाम (धर्मसं ४७२, उप ८६८) ।

परिणमिअ } वि [परिणत] १ परिपक्व
परिणय } (पात्र) । २ बुद्धि-प्राप्त. 'तह परिणमिअो धम्मो जह त खोभंति न सुरावि' (धर्मवि ८) । ३ श्रवस्थान्तर को प्राप्त (ठा २, १—पत्र ५३, पिंड २६५) । 'वय वि [°वयस्] १ बृद्ध, बूढा (खाया १, १—पत्र ४६) ।

परिणयण न [परिणयन] विवाह (उप १०१४, सुपा २७१) ।

परिणयणा स्त्री ऊपर देखो (धर्मवि १२६) ।
परिणव देखो परिणम । परिणवइ (आरा ३१, महा) ।

परिणाइ पु [परिज्ञाति] परिचय, 'कह तुज्झ तेण समय परिणाई तत्रखणेण उप्पनो' (पञ्च ५३, २५) ।

परिणाम सक [परि + णमय्] परिणत करना । परिणामेइ (ठा २, २) । कवक परिणामिज्जमाण, परिणामेज्जमाण (भग, ठा १०) । हेइ परिणामित्तए (भग ३, ४) ।

परिणाम पुं [परिणाम] १ श्रवस्थान्तर-प्राप्ति, रूपान्तरलाभ (धर्मसं ४७२) । २ दीर्घ काल के अनुभव से उत्पन्न होनेवाला आत्म-धर्म विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८३) । ३ स्वभाव, धर्म (ठा ६) । ४ अध्यवसाय, मनो-भाव (निच्च २०) । ५ वि. परिणत करनेवाला, 'विट्ठता परिणामि' (वव १०, बृह १) ।

परिणामणया } स्त्री [परिणामणा] परिण-
परिणामणा } माना, रूपान्तरकरण (परण ३४—पत्र ७७४, विसे २२७८) ।

परिणामय वि [परिणामक] परिणत करने-
वाला (बृह १) ।

परिणामि वि [परिणामिन्] परिणत होने-
वाला (दे १, १, आवक १८३) । 'कारण न [°कारण] कार्य-रूप में परिणत होनेवाला कारण, उपादान कारण (उवर २७) ।

परिणामिअ वि [परिणामिक] १ परिणाम-
जन्य, परिणाम से उत्पन्न । २ परिणाम-
सवन्धी । ३ पुं. परिणाम । ४ भाव-विशेष,

'सव्वदव्वपरिणइरूवो परिणामिअो सव्वो' (विसे २१७३, ३४६५) ।

परिणामिअ वि [परिणमित] परिणत किया हुआ (पिंड ६१२, भग) ।

परिणामिआ स्त्री [परिणामिअो] बुद्धि-
विशेष, दीर्घ काल के अनुभव से उत्पन्न होने-
वाली बुद्धि (ठा ४, ४) ।

परिणाय वि [परिज्ञात] जाना हुआ, परिचित
(पञ्च ११, २७) ।

परिणाव सक [परि + णायय्] विवाह
कराना । परिणावसु (कुप्र ११६) । क.
परिणावियच्च, परिणावेयच्च (कुप्र ३३०,
१५४) ।

परिणावण न [परिणायन] विवाह कराना
(सुपा ३६८) ।

परिणाविअ वि [परिणावित] जिसका विवाह
कराया गया हो वह (सुपा १६५, धर्मवि
१३६, कुप्र १४) ।

परिणाह पुं [परिणाह] १ लम्बाई, विस्तार
(पात्र, से ११, १२) । २ परिधि (स ३१२,
ठा २, २) ।

परिणिऊण देखो परिण ।

परिणित देखो परिणी = परि + गम् ।

परिणिज्जत देखो परिणी = परि + णी ।

परिणिज्जरा स्त्री [परिनिर्जरा] विनाश, क्षय
(पञ्च ३१, ६) ।

परिणिज्जिय वि [परिनिर्जित] पराभूत,
पराजय-प्राप्त (पञ्च ५२, २१) ।

परिणिट्ठा स्त्री [परिनिष्ठा] संपूर्णता, समाप्ति
(उवर १२५) ।

परिणिट्ठान न [परिनिष्ठान] अवेसान, अन्त
(विसे ६२६) ।

परिणिट्ठिअ वि [परिनिष्ठित] १ पूर्ण किया
हुआ, समाप्त किया हुआ (रयण २५) ।
२ पार-प्राप्त (खाया १, ८, भास ६८,
पचा १२, १४) । ३ परिज्ञात (वव १०) ।

परिणिट्ठिया स्त्री [परिनिष्ठिता] १ कृषि-
विशेष, जिसमें दो या तीन बार तुण-शोधन
किया गया हो वह कृषि, अर्थात् दो या तीन
बार की सोहनी (निराई) की हुई खेत । २
दोसा-विशेष, जिसमें बारंबार अतिचारों की
आलोचना की जाती हो वह दोसा (राज) ।

परिणिय वि [परिणीत] जिसका विवाह
हुआ हो वह (सण, भवि) ।

परिणिव्व सक [परिनिर् + वायय्]
सर्व प्रकार से अतिशय परिणत करना ।
सक परिणिव्वविय (कस) ।

परिणिज्जा अक [परिनिर् + वा] १ शान्त
होना । २ मुक्ति पाता, मोक्ष को प्राप्त
करना । परिणिज्जायति (भग) । भूका
परिणिज्जाइसु (पि २१६) । भाव परि
णिज्जाहिंति (भग) ।

परिणिज्जाण न [परिनिर्वाण] मुक्ति, मोक्ष
(आचा, कप्प) ।

परिणिच्चुइ स्त्री [परिनिर्वाति] ऊपर देखो
(राज) ।

परिणिच्चुय देखो परिनिच्चुअ (औप) ।

परिणी सक [परि + णी] १ विवाह करना ।
२ ले जाना । कवक परिणिज्जत, परिणीय-
माण (कुप्र १२७, आचा) ।

परिणी अक [परि + गम्] वाहर निकलना ।
वक. परिणित (स ६६१) ।

परिणीअ वि [परिणीत] जिसका विवाह
किया गया हो वह (महा, प्रासु ६३, सण) ।

परिणील वि [परिणील] सर्वथा हरा रंग
का (गण्ड) ।

परिणे देखो परिणी । परिणेइ (महा, पि
४७४) । हेइ परिणेअं (कुप्र ५०) । क
परिणोयच्च (सुपा ४५५, कुप्र १३८) ।

परिणोविय (अप) वि [परिणायित] जिसका
विवाह कराया गया हो वह (सण) ।

परिणेच्चुयें देखो परिनिच्चुअ (उत्त १८,
३५) ।

परिण वि [परिण] ज्ञाता, जानकार (आचा
१, ५, ६, ४) ।

परिण° देखो परिणणा° (आचा १, २,
६, ५) ।

परिणणा सक [परि + ञ्णा] जानना । संक.
परिण्णाय (आचा, भग) । हेइ परिणणाहु
(शौ) (अमि १८६) ।

परिणणा स्त्री [परिण्णा] १ ज्ञान, जानकारी
(आचा, वसु, पचा ६, २५) । २ विवेक
(आचा) । ३ पर्यालोचन, विचार (सुप्र १,

पयपण न [प्रजल्पन] कथन, उक्ति (उप
पृ २१७)।

पयपिय वि [प्रकम्पित] अति काँपा हुआ
(म ३७७)।

पयपिय वि [प्रजल्पित] १ कथित, उक्त।
२ न कथन, उक्ति। ३ वक्त्रवाद, व्यर्थ
जल्पन (विपा १, ७)।

पयपिर वि [प्रजल्पितृ] १ बोलनेवाला।
२ वाचाट, वक्त्रवादी (सुर १६, ५८, सुपा
४१५, आ २७)।

पयस सक [प्र + दर्शय] दिखलाना।
पयसँति (विसे ६३२)।

पयसण न [प्रदर्शन] दिखलाना (स ६१३)।

पयसिअ वि [प्रदर्शित] दिखलाया हुआ
(सुर १, १०१, १२, ३२)।

पयस देवो पाइसक ()।
पयसवर सक [प्रत्या + ख्या] प्रत्याख्यान
करना, प्रतिज्ञा करना। पयसवेड (विचार
७५५)।

पयसिण देवो पदसिण = प्रवक्षिण (खाया
१, १६)।

पयसिण देवो पदसिण = प्रवक्षिणम्।
सक पयसिणिकण (सुर ८, १०५)।

पयसिण देवो पदसिणिया (उप १४२ टी,
सुर १४, ३०)।

पयग देवो पयय = पतग, पदक, पदग (राज,
पन १६४)।

पयच्छ मत्त [प्र + यम्] देना, अर्पण
करना। पयच्छ (महा)। सक पयच्छिकण
(राज)।

पयच्छण न [प्रदान] १ दान, अर्पण (सुर
२, १११)। २ दि देनेवाला (सण)।

पयट्ट अक [प्र + वृत्] प्रवृत्ति करना।
पयट्ट (हे २, ३०, ४, ३४७, महा)। क
पयट्टिअअ (सुपा १२६)। प्रयो पयट्टिवेह
(न २२) गह पयट्टिविड (स ७१५)।

पयट्ट वि [प्रवृत्त] १ जिनने प्रवृत्ति की हो
या (हे २, २६ गग)। २ अनित, 'पयट्टय
अनित' (पाग)।

पयट्ट वि [प्रवृत्त] प्रवृत्ति करनेवाला
(नर १, १)।

पयट्टावअ वि [प्रवृत्तक] प्रवृत्ति करनेवाला
(कम्प)।

पयट्टाविअ वि [प्रवृत्तित] प्रवृत्त किया हुआ,
किसी कार्य में लगाया हुआ (महा)।

पयट्टिअ वि [दे प्रवृत्तित] ऊपर देखो (दे
६, २६)।

पयट्टिअ वि [प्रवृत्त] प्रवृत्ति-युक्त (उत्त ४,
२, सुख ४, २)।

पयट्टाण देवो पड्डाण (काल, पि २२०)।

पयड सक [प्र + कटय] प्रकट करना,
व्यक्त करना। पयडइ, पयडेइ (सण, महा)।
वक पयडत (सुपा १, गा ४०६, भवि)।
हेक पयडित्तु (पि ५७७)। प्रयो, पयडा-
वइ (भवि)।

पयड वि [प्रकट] १ व्यक्त, खुला (कुमा,
महा)। २ विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध,
'विक्रवाओ विस्सुओ पयडो' (पाग)।

पयडण न [प्रकटन] १ व्यक्त करना, खुला
करना (सण)। २ वि. प्रकट करनेवाला, 'जे
तुज्ज गुणा बहुनेहपयडणा' (धर्मवि ६६)।

पयडावण न [प्रकटन] प्रकट कराना (भवि)।

पयडाविअ वि [प्रकटित] प्रकट कराया हुआ
(काल, भवि)।

पयडि देवो पगइ (परण २३, पि २१६)।

पयडि लो [दे] मार्ग, रास्ता, 'जे पुण
सम्महिट्ठी तेसि मणो चडणपयडीए' (सट्टि
१४२)।

पयडिय वि [प्रकटित] प्रकट किया हुआ
(सुर ३, ४८, आ २)।

पयडिय वि [प्रपत्तित] गिरा हुआ (खाया
१, ८—पन १३३)।

पयडीकय वि [प्रकटीकृत] प्रकट किया
हुआ (महा)।

पयडीकर सक [प्रकटी + कृ] प्रकट करना।
प्रयो पयडीकरावेमि (महा)।

पयडीभूअ } वि [प्रकटीभूत] जो प्रकट
पयडीहूअ } हुआ हो (सुर ६, १८४, आ
१६, महा, सण)।

पयडुणी लो [दे] १ प्रतिहारो। २ प्राकृष्टि,
आकर्षण। ३ महिषो (दे ६, ७२)।

पयण देवो पयण (गा ७७७)।

पयण देवो पयण (विने १८५६)।

पयण } न [पचन, °क] १ पाक, पकाना
पयणग } (श्रौप, कुमा)। २ पात्र-विशेष,

पकाने का पात्र (सूत्रानि ८०, जीव ३)।
°साला लो [°शाला] एक-स्थान (बुह २)।

पयणु } वि [प्रतनु] १ कृश, पतला। २
पयणुअ } सूक्ष्म, बारीक। अल्प, थोड़ा (स
२४६, सुर ८, १६५, भग ३, ४, जं २,
पउम ३०, ६६, से ११, ५६, गा ६८२,
गउड)।

पयणय देवो पइणग (तंदु १)।

पयत्त अक [प्र + यत्] प्रयत्न करना।
पयत्त (शौ) (पि ४७१)।

पयत्त देवो पयट्ट = प्र + वृत् (काल)।

पयत्त पु [प्रयत्त] चेष्टा, उग्रम, उद्योग (सुपा,
उव, सुर १, ६, २, १८२, ४, ८१)।

पयत्त वि [प्रदत्त, प्रत्त] १ दिया हुआ
(भग)। २ अनुनात, समत (अनु ३)।

पयत्त देवो पयट्ट = प्रवृत्त (सुर २, १५६,
३, २४८, से ३, २४, ८, ३, गा ४३६)।

पयत्ताविअ वि [प्रवृत्तित] प्रवृत्त किया हुआ
(काल)।

पयत्थ पु [पदार्थ] १ शब्द का प्रतिपाद्य,
पद का अर्थ (विसे १००३, चेइअ २७१)।

२ तत्व (सम १०६, सुपा २०५)। ३ वस्तु,
चीज (पाग)।

पयत्त देवो पइणण = प्रकीर्ण (भवि)।

पयत्ता देवो पइणणा (उप १४२ टी)।

पयपण न [प्रकल्पन] कल्पना, विचार
(धर्मस ३०७)।

पयय देवो पायय = प्राकृत (हे १, ६७,
गउड)।

पयय वि [प्रयत्] प्रयत्न शील, सतत प्रयत्न
करनेवाला (श्रौप, पउम ३, ६५, सुर १, ४,
उव), 'इच्छिज्ज न इच्छिज्ज व तहवि पययो
निमतए साहू' (पुफ ४२६, पडि)।

पयय पु [पतग, पदक, पदग] १ वात-
व्यन्तर देवो की एक जाति (ठा २, ३, परण
१, इक)। २ पतग देवो का दक्षिण दिशा का
इन्द्र (ठा २, ३)। 'वइ पु [पति] पतग देवो
का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र
८५)।

पयय न [दे] अनिय, निरन्तर (दे ६, ६)।

परिदेवणया स्त्री [परिदेवना] ऊपर देखो
(ठा ४, १—पत्र १८८)।

परिदेवि वि [परिदेविन्] विलाप करनेवाला
(नाट—शकु १०१)।

परिदेविअ न [परिदेवित] विलाप (पाम्, से ११, ६६, सुर २, २४१)।

परिदो अ [परितस्] चारो ओर से (गा ४५४ अ)।

परिधम्म पुं [परिधर्म] छन्द-विशेष (पिंग)।

परिधवलिय वि [परिधवलित] खूब सफेद
किया हुआ (सए)।

परिधाम पुंन [परिधामन्] स्थान (सुपा ४६३)।

परिधाविअ वि [परिधावित] दौड़ा हुआ
(हम्मीर ३२)।

परिधाविर वि [परिधावित्] दौड़नेवाला
(सए)।

परिधूणिय वि [परिधूणित] अत्यन्त कँपाया
हुआ (सम्मत १३६)।

परिधूसर वि [परिधूसर] धूसर बर्णवाला
(वज्जा १२८, गउड)।

परिनद्ध वि [परिनट्ट] विनष्ट (महा)।

परिनिक्खम देखो पड्डिनिक्खम। परिनिक्ख-
भेइ (कप्प)।

परिनिट्टिय देखो परिणिट्टिअ (कप्प, रंभा ३०)।

परिनिय सक [परि + द्द] देखना, अन्-
लोकन करना। वक्क परिनियत (सुपा ५२२)।

परिनिविट्ट वि [परिनिविष्ट] ऊपर बैठा
हुआ (सुपा २६६)।

परिनिविड वि [परिनिविड] विशेष निविड
या घना (महा)।

परिनिट्ठा देखो परिणिट्ठा। परिनिट्ठाइ
(भग), परिनिट्ठाइति (कप्प)। भवि परि-
निट्ठाइस्सति (भग)।

परिनिट्ठाण देखो परिणिट्ठाण (शाया १,
८, ठा १, १, भग, कप्प, पव १३८ टी)।

परिनिट्ठुअ } वि [परिनिट्ठत्] १ मुक्त,
परिनिट्ठुअ } मोक्ष को प्राप्त (ठा १, १,
पउम २०, ८४, कप्प)। २ शान्त, ठंडा

(सूध १, ३, ३, २१)। ३ स्वस्थ (सुपा १८३)।

परिण देखो परिण (आचा)।

परिण देखो परिण (आचा)।

परिणा देखो परिणा (उप ५२५)।

परिणाण देखो परिणाण (आचा)।

परिणाय देखो परिणाय = परिजात (सुपा २६२)।

परिणाय वि [प्रतिजात] जिसकी प्रतिजा की
गई हो वह (पिड २८१)।

परिण्डुर } वि [परिण्डुर] विशेष
परिण्डुल } पाण्डुर—धूसर बर्ण वाला (सुपा २५६, कप्प, गउड, से १०, ३३)।

परिपथग वि [प्रतिपथक] दुरमन, विरोधी,
प्रतिकूल (स १०५)।

परिपथिअ } वि [परिपथिक] ऊपर देखो
परिपथिअ } (स ७४६, उप ६३६)।

परिपक्क वि [परिपक्क] पका हुआ (पव ४, भवि)।

परिपल्लिअ (अप) वि [परिपतित] गिरा
हुआ (पिंग)।

परिपाग पुं [परिपाक] विपाक, फल, 'पुञ्ज-
भवविद्धिमसुचरिअपरिपागो एस उद्वयसपतो'
(रयण ५२, आचा)।

परिपाडल वि [परिपाटल] सामान्य लाल
रगवाला, गुलाबी रग का (गउड)।

परिपाडिअ वि [परिपाटित] फाड़ा हुआ,
विदारित (दे ७, ६१)।

परिपाल सक [परि + पालय्] रक्षण
करना। परिपालइ (भवि)। कृ परि-
पालणीअ (स्वप्न २६)। सक परिपालिअ
(सुपा ३४२)।

परिपालण न [परिपालन] रक्षण (कुप्र २२६, सुपा ३०८)।

परिपालिय वि [परिपालित] रक्षित (भवि)।

परिपासय [दे] देखो परिवास (दे)
(पाम्)।

परिपिअ सक [परि + पा] पीना, पान
करना। कवक्क परिपिज्जत (नाट—
वैत ४०)।

परिपिज्जर वि [परिपिज्जर] विशेष पीत-
रक्त बर्णवाला (गउड)।

परिपिडिय वि [परिपिडित] १ एकत्र
समुदित, इकट्ठा किया हुआ (पिड ४६७)।

२ न गुरुचन्दन का एक दोष (धर्म २)।

परिपिक्क देखो परिपक्क (पि १०१)।

परिपिज्जत देखो परिपिअ।

परिपिट्ठण न [परिपिट्ठन्] पीटना, ताडन
(वच १)।

परिपिरिया स्त्री [दे] वाद्य विशेष (भग ५,
४—पत्र २१६)।

परिपिल्ल सक [परिप्र + ईरय्] प्रेरणा।

परिपिल्लइ (सुपा ६४)।

परिपिहा सक [परिपि + धा] ढकना,
आच्छादन करना। सक, परिपिहिता,
परिपिहेत्ता (कप्प, पि ५८२)।

परिपीडिय वि [परिपीडित] जिसको पीडा
पहुँचाई गई हो वह (भवि)।

परिपील सक [परि + पीलय्] १ पीटना।
२ पीलना, ढबाना। परिपीलेज्जा (पि २४०)। सक परिपीलइत्ता, परिपीलिय,
परिपीलियाण (भग, राज, आचा २, १,
८, १)।

परिपीलिअ देखो परिपीडिअ (राज)।

परिपुगल वि [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (?), 'जया
भविसयतु परिपुगलु होसइ रिद्धिविद्धिमुहं
भगवु' (भवि)।

परिपुच्छ सक [परि + प्रच्छ] प्र
करना। परिपुच्छइ (भवि)।

परिपुच्छण न [परिप्रच्छन्] प्रश्न, पूछ
(भवि)।

परिपुच्छिअ } वि [परिपुष्ट] पूछा हुआ
परिपुष्ट } जिज्ञासित (गा ६२३, भा
सुपा ३८७)।

परिपुण्ण } वि [परिपूर्णा] सपूर्ण (भ
परिपुण्ण } भवि)।

परिपुस सक [परि + प्पुश] संद
करना। परिपुसइ (से ४, ५)।

परिपूज सक [परि + पूजय्] पूज
परिपूज (अप) (पिंग)।

परिपूणा पु [दे परिपूर्णा] पक्षि-नि
का नीड, सुधरी नामक पक्षी का घों
(विसे १४५४, १४६५)।

परिपूणा पु [दे, परिपूर्णा] धी-दूध ग
का कपडा, छानना (एदि ५४)।

१, १)। २ लोक, जन समूह, (सिरि ४२, पचा ७, ३७)। ३ जतु-समूह, 'निम्बिण-चारी अरए पयासु' (आचा, सूत्र १, ५, २, ६)। ४ सतान वाली स्त्री, 'निम्बिद नदि अरए पयासु अमोहदंसी' (आचा, सूत्र १, १०, १५)। ५ सतान, सतति (सिरि ४२)।
 °णद पु [°नन्द] एक कुलकर पुरुष का नाम (पउम ३, ५३)। °नाह पु [°नाथ] राजा नरेश (सुपा ५७५)। °पाल पु [°पाल] एक जैन मुनि जो पाँचवें बलदेव के पूर्वजन्म में गुरु थे (पउम २०, १६२)। °वइ पु [°पति] १ ब्रह्मा, विवाता (पाम्र, सुपा ३०५)। २ प्रथम वासुदेव के पिता का नाम (पउम २०, १८२, सम १५२)। ३ नक्षत्र-देव विशेष, रोहिणी-नक्षत्र का अविष्ठायक देव (ठा २, ३—पत्र ७७, सुज्ज १०, १२)। ४ दध, कश्यप आदि ऋषि। ५ राजा, नरेश। ६ सूर्य, रवि। ७ बद्धि, अग्नि। ८ त्वष्टा। ९ पिता, जनक। १० कीट-विशेष। ११ जामाता (हे १, १७७, १८०)। १२ अहो-रात्र का उन्नीसवाँ ग्रहर्त (सुज्ज १०, १३)।
 पयाइ पु [पदाति] प्यादा, पाँव से (पेदल) चलनेवाला सैनिक (हे २, १३८, पड्, कुमा, महा)।
 पयाग पुन [प्रयाग] तीर्थ-विशेष, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है (पउम ८२, ८१, हे १ १७७)।
 पयाण न [प्रदान] दान, वितरण (उवा, उप ५६७ टी, गुर ४, २१०, सुपा ४६२)।
 पयाण न [प्रदान] विस्तार (भग १६, ६)।
 पयाण न [प्रयाग] प्रस्थान, गमन (राया १, ३, पएह २, १, पउम ५४ २८, महा)।
 पयाम देणो पयाम (स = ५६)।
 पयाम न [डे] अतुपूर्व, क्रमानुसार (हे ६, ६, पाम्र)।
 पयाय देणो पयाय (कुमा)।
 पयाय वि [प्रयान] जिसने प्रयाण किया हो वह (उप २११ टी, महा, श्रौप)।
 पयाय वि [प्रजात] उत्पन्न, सजात, 'पयाय-जाना विनिमा' (द ७, ३१)।
 पयाय वि [प्रजात, प्रजानित] प्रभूत, जिसने जन दित हो वह, 'दारग पयाया' (विपा १, ६९)

१, २, कप्प, णाया १, १—पत्र ३३), 'पयाया पुत्त' (वसु)।
 पयाय देखो पयाव = प्रताप (गा ३२६, से ४, ३०)।
 पयार सक [प्र + चारय्] प्रचार करना।
 पयारइ (सण)। संकृ पयारिंवि (अप) (सण)।
 पयार सक [प्र + तारय्] प्रतारण करना, ठगना। पयारइ, पयारसि (सण)।
 पयार पु [प्रकार] १ भेद, किस्म। २ ढग, रीति, तरह (हे १, ६८, कुमा)।
 पयार पु [प्रकार] किला, दुर्ग (पउम ३०, ४६)।
 पयार पु [प्रचार] १ सचार, सचरण (सुपा २४)। २ प्रसार, फैलाव (हे १, ६८)।
 पयार पु [प्रचार] १ प्रकर्ष-प्राप्ति (दसनि १, ४१)। २ आचरण, आचार (दसनि १, १३५)।
 पयारण न [प्रतारण] वचन, ठगाई (सुर १२, ६१)।
 पयारिअ वि [प्रतारित] ठगा हुआ, वञ्चित (पाम्र, सुर ४, १५५)।
 पयाल पु [पाताल] भगवान् अनन्तनाथजी का शासन यक्ष, 'छम्पुह पयाल किन्नर' (सति ८)।
 पयाव सक [प्र + तापय्] तपाना, गरम करना। वकृ पयावेमाण (पि ५५२)।
 हेक पयावित्तप (कप्प)।
 पयाव पु [प्रताप] १ तेज, प्रखरता (कुमा, सण)। २ प्रकृष्ट ताप, प्रखरऊमा (पव ४)।
 पयावण न [पाचन] पकवाना, पाक कराना (पएह १, १, आ ८)।
 पयावण न [प्रतापन] १ गरम करना, तपाना (श्रौप १८० भा, पिड ३४, आचा)। २ अग्नि (कुप्र ३८६)।
 पयावि वि [प्रतापिन्] १ प्रताप शाली। २ पु इस्वाकु वश के एक राजा का नाम (पउम ५, ५)।
 पयास सक [प्र + कागय्] १ व्यक्त करना। २ चमकाना। ३ प्रसिद्ध करना।
 पयासेइ (हे ४, ४५)। वकृ पयासत, पयासंत, पयासअत (सण, गा ४०३, उप

८३३ टी, पि ३६७)। कृ पयासणिज्ज, पयासियव्व (उप ५६७ टी, उप पृ ५५)।
 पयास देखो पयास = प्रकाश (पाम्र, कुमा)।
 पयास पुं [प्रयास] प्रयत्न, उद्यम (वेइय २६०)।
 पयास (अप) नीचे देखो (भवि)।
 पयासग वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला (स ७८)।
 पयासण न [प्रकाशन] १ प्रकाश-करण (आचा, सुपा ४१६)। २ वि प्रकाशक, प्रकाश करनेवाला, 'परमत्थपयासण वीर' (पुष्प १)।
 पयासय देखो पयासग (विसे ११३०, सं १, पव ८६)।
 पयासि वि [प्रकाशिन] प्रकाश करनेवाला (सण, हम्मीर १४)।
 पयासिय देखो पयासिय (भवि)।
 पयासिर वि [प्रकाशित] प्रकाश करनेवाला (भवि)।
 पयासंत देखो पयास = प्र + काशय्।
 पयाहिण देखो पदक्खिण = प्रदक्षिण (उवा, श्रौप, भवि, पि ६५)।
 पयाहिण देखो पदक्खिण = प्रदक्षिणय्।
 पयाहिएइ (भवि)। पयाहिएति (कुप्र २६३)।
 पयाहिणा देखो पदक्खिणा (सुपा ४७)।
 पय्यवत्थाण (शौ) न [पर्यवस्थान] प्रकृति मे अवस्थान (स्वप्न ४८)।
 पर सक [अम्] अमरण करना, धूमना।
 परइ (हे ४, १६१, कुमा)।
 पर देखो प = प्र (तदु ४६)।
 पर वि [पर] १ अन्य, भिन्न, इतर (गा ३८४, महा, प्रासू ८, १५७)। २ तत्पर, तल्लीन, 'कोज्जलपरा' (महा, कुमा)। ३ श्रेष्ठ, उत्तम, प्रधान (आचा, रयण १५)। ४ प्रकर्ष प्राप्त, प्रकृष्ट (आचा, आ २३)। ५ उत्तरवर्ती, बाद का, 'परलोग' (महा)। ६ दूरवर्ती (सूत्र १, ८, निचू १)। ७ अनात्मीय, अस्वीय (उत्त १, निचू २)। ८ पुं शत्रु, दुश्मन, रिपु (सुर १२, ६२, कुमा प्रासू ६)। ९ न केवल, फक्त (कुमा, भवि)।
 °उट्ट वि [°पुट्ट] अन्य से पालित। २ कोकिल पक्षी (हे १, १७६)। °उत्थिय

माण (राज) । संक परिभाइत्ता, परिभायइत्ता (कल्प, औप) । हेक परिभाएउ (पि ५७३) ।

परिभाइय वि [परिभाजित] विभक्त किया हुआ (आचा २, २, ३, २) ।

परिभायत देखो परिभाअ ।

परिभायण न [परिभाजन] बँटवा देना (पिड १६३) ।

परिभाव सक [परि + भावय्] १ पर्यालोचन करना । २ उन्नत करना । परिभावइ (महा) । सक परिभाविऊण (महा) । क परिभावणीय (राज) ।

परिभावइत्तु वि [परिभावयित्] प्रभावक, उन्नति-कर्ता (ठा ४, ४—पत्र २६५) ।

परिभावि वि [परिभाविन्] परिव्रभ करनेवाला (अभि ७१) ।

परिभास सक [परि + भाप्] १ प्रतिपादन करना, कहना । २ निन्दा करना । परिभासइ, परिभासति, परिभासेइ, परिभासए (उत्त १८, २०, सूत्र १, ३, ३, ८, २, ७, ३६, विसे १४४३) । वक परिभासमाग (पउम ५३, ६७) ।

परिभासा ली [परिभापा] १ सकंत (सबोध ५८, भास १६) । २ तिरस्कार । ३ धूर्ण, टीका-विशेष (राज) ।

परिभासि वि [परिभाषिन्] परिभव-कर्ता, 'राइणियपरिभासी' (सम ३७) ।

परिभासिय वि [परिभापित] प्रतिपादित (सूत्रनि ८८, भास २१) ।

परिभिंद सक [परि + भिद्] भेदन करना । कवक, परिभिज्जमाण (उप घृ ६७) ।

परिभीय वि [परिभीत] डरा हुआ (उव) ।

परिभुज सक [परि + भुज्] १ खाना, भोजन करना । सेवन करना, सेवना । ३ बारबार उपभोग मे लेना । कर्म परिभुजिज्जइ परिभुज्जइ (पि ५४६, गच्छ २, ५१) । वक परिभुजत, परिभुजमाण (निचू १, छाया १, १, कप) । कवक, परिभुजमाण (औप, उप घृ ६७, छाया १, १—पत्र ३७) । हेक परिभोत्तु (वस ५, १) । क परिभोग, परिभोत्तव (पिड ३४, कस) ।

परिभुजण न [परिभोजन] परिभोग (उप १३४ टी) ।

परिभुजणया ली [परिभोजना] उपर देखो (सम ४४) ।

परिभुत्त वि [परिभुत्त] जिसका परिभोग किया गया हो वह (सुपा ३००) ।

परिभुत्त } वि [परिभुत्त] वेष्टित, परिकरित, परिभुय } लपेटा हुआ, घेरा हुआ (आचा २, ११, ३, २, ११, १६) ।

परिभूअ वि [परिभूत] अभिभूत, तिरस्कृत (सूत्र २, ७, २, सुर १६, १२६, चेइय ७१४, महा) ।

परिभोअ देखो परिभोग (अभि १११) ।

परिभोइ वि [परिभोगिन्] परिभोग करनेवाला (पि ४०५, नाट—शकु ३५) ।

परिभोग पुं [परिभोग] १ बारबार भोग (ठा ५, ३ टी, आव ६) । २ जिसका बार बार भोग किया जाय वह वख आदि (औप) । ३ जिसका एक ही बार भोग किया जाय—जो एक ही बार काम मे लाया जाय वह—आहार, पाल आदि (उवा) । ४ नाह वस्तुओ का भोग (आव ६) । ५ आसेवन (पसह १, ३) ।

परिभोग

परिभोत्तव } देखो परिभुज ।

परिभोत्तु

परिमइल सक [परि + मृज्] मार्जन करना (सखि ३५) ।

परिमउअ वि [परिमृदुक] १ विशेष कोमल । २ अत्यन्त सुकर, सरल (धर्मस ७६१, ७६२) । ली उई (विसे ११६६) ।

परिमउलिअ वि [परिमकुलित] चारो ओर से सकुचित (सण) ।

परिमडण न [परिमण्डन] अलकरण, विभूपा (उत्त १६, ६) ।

परिमडल वि [परिमण्डल] वृत्त, गोलाकार (सूत्र २, १, १५, उत्त ३६, २२, स ३१२, पात्र, औप, पण १, ठा १, १) ।

परिमडिय वि [परिमण्डित] विभूषित, सुशोभित (कप, औप, सुर ३, १२) ।

परिमथर वि [परिमन्थर] मन्द, श्रीमा (गउड, स ७१६) ।

परिमथिअ वि [परिमथित] अत्यन्त आलोडित (सम्मत्त २२६) ।

परिमद वि [परिमन्द] मन्द, अशक्त (सुर ४, २४०) ।

परिमग्ग सक [परि + मार्गय्] १ अन्वेषण करना, खोजना । २ माँगना, प्रार्थना करना । वक परिमग्गमाण (नाट—विक् ३०) । सक परिमग्गेउ (महा) ।

परिमग्गि वि [परिमार्गिन्] खोज करनेवाला (गा २६१) ।

परिमज्जिर वि [परिमज्जित्] हबनेवाला (सुपा ६) ।

परिमट्ट वि [परिमट्ट] १ घिसा हुआ (से ६, २, ८, ४३) । २ आस्फालित, 'परिमट्टमेससिहरो' (से ४, ३७) । ३ मार्जित, शोषित (कप) ।

परिमह सक [परि + मर्दय्] मर्दन करना । वक परिमहयत (सुर १२, १७२) ।

परिमहण न [परिमर्दन] मर्दन, मालिश (कप, औप) ।

परिमहा ली [परिमर्दा] सबाधन, दवाता, पैचणी—पैर दवाता आदि (निचू ३) ।

परिमन्न सक [परि + मन्] आदर करना । परिमन्नइ (अभि) ।

परिमल सक [परि + मल्, मृद्] १ घिसना । २ मर्दन करना, 'जो मरणयाति परिमलइ हृथु' (कुत्र ४५२),

'एलिणीसु भमसि परिमलसि सत्तल मालइपि एो मुअसि ।

तरलत्तए तुह अहो महअर

जइ पाडला हरइ ।' (गा ६१६) ।

परिमल पु [परिमल] १ कुकुम-चन्दनादि का मर्दन (से १, ६४) । २ सुगन्ध (कुमा, पात्र) ।

परिमलण न [परिमलन] १ परिमर्दन । २ विचार (गा ४२८, गउड) ।

परिमलिअ वि [परिमलित, परिमृदित] जिसका मर्दन किया गया हो वह (गा ६३७, से ७, ६२, महा, वज्जा ११८) ।

परिमहिय वि [परिमहित] पूजित (पउम १, १) ।

बडा पेड (आ २३) । °वाय वि [°पात्]
 प्रकृष्ट पेखाला (आ २३) । °वाय वि [°वाच]
 फलित शालि (आ २३) । °वाय वि [°वाप]
 १ विशेष भाव से शत्रु की चिन्ता करनेवाला ।
 २ पु मन्त्री, अमात्य । ३ सुभट, योद्धा (आ
 २३) । °वाय वि [°पात] आपात-सुन्दर,
 जो प्रारम्भ मे ही सुन्दर हो वह (आ २३) ।
 °वाय वि [°प्राय] श्रेष्ठ विवाहवाला
 (आ २३) । °वाय वि [°पाय] श्रेष्ठ
 रक्षावाला जिसकी रक्षा का उत्तम प्रबन्ध
 हो वह । २ अत्यन्त प्यासा । ३ पु राजा,
 नरेश (आ २३) । °वाय वि [°व्यात]
 १ इतर के पास विशेष वमन करनेवाला ।
 २ पु भिक्षुक, याचक (आ २३) । °वाय
 वि [°पापस्] १ दूसरे की रक्षा के लिए
 हथियार रखनेवाला । २ पु. सुभट, योद्धा
 (आ २३) । °वाया स्त्री [°व्याजा] वेश्या,
 वारागता (आ २३) । °वाया स्त्री [°व्यागस्]
 असती, कुलटा (आ २३) । °वाया स्त्री
 [°व्यापा] अन्तिम समुद्र की स्थिति (आ
 २३) । °वाया स्त्री [°पाता] धूर्त-भैश्री
 (आ २३) । °वाया स्त्री [°प्राया] नृप-
 कन्या (आ २३) । °वाया स्त्री [°पागा]
 मरु-भूमि (आ २३) । °वाया स्त्री
 [°वाच्] कश्मीर-भूमि (आ २३) ।
 °वाया स्त्री [°वाज्] नृप-स्थिति (आ
 २३) । °वाया स्त्री [°पात्] शतपदी,
 जन्तु-विशेष (आ २३) । °वाया स्त्री
 [°व्याया] भेरी, वाद्य-विशेष (आ २३) ।
 °विगम पु [°विदेश] परदेश, विदेश
 (पत्र ३०, ३६) । °व्यस देखो 'वस
 (पृ. गा २६५, मनि) । °सतिग वि
 [°सत्क] पर-समधी, परकीय (परह १
 ३) । °समय पु [°सामय] इतर दर्शन
 का निडात 'जागइया नययाया तात्रइया
 येय परउमया' (मम्म १४४) । °हुअ वि
 [°भ्रुन] १ दूसरे से पुष्ट, अय से पालित
 (प्राप्र) । २ पुत्री कोयन, पिक पक्षी
 (बन्) । ३ °आ (नुर ३, ५४, पाप्र) ।
 °नार देतो °घाय (प्रासू १०४, सम ६७) ।
 °धीण देतो °हीण (धर्मवि १३६) । °यत्त
 वि [°यत्त] पराधीन, परन्त (पत्र ६४,

३४, उप पृ १२२, महा) । °हीण वि
 [°धीन] परतन्त्र, परायत्त (नाट—मालवि
 २०) ।

परं देखो परा = अ (आ २३, पत्र ६१, ८) ।

पर अ [परम्] १ परन्तु किन्तु, 'ज तुमं
 आणवेसित्ति, परं तुह दूरे नयर' (महा) ।

२ उपरान्त, 'नो से कप्पइ एतो वाहिं, तेण
 पर, जत्थ नाणदसणचरिताइ उदसप्पत्ति त्ति
 वेमि' (कस १, ५१, २, ४—७, ४, १२—२६) ।

३ केवल, फक्त, 'एस मह सतावो, पर
 माणससरमज्जणेण जइ भवगच्छइत्ति' (महा) ।

पर अ [परन्] आगामी वर्ष, 'अज्ज कल्ल
 परं परारि' (वे २), 'अज्ज पर परारि
 पुरिसा चित्ति अत्यसपत्ति' (प्रासू ११०) ।

परग सक [परि + अङ्ग] चलना, गति
 करना । कवक परगिज्जमाण (श्रौप) ।

परगमण न [पर्यङ्गन] पवि से चलना,
 चक्रमण (श्रौप) ।

परगामण न [पर्यङ्गन] चलाना, चक्रमण
 कराना (भग ११, ११—पत्र ५४४) ।

परतम वि [परतम] अन्य को हैरान करने-
 वाला (ठा ४, २—पत्र २१६) ।

परतम वि [परतमस्] १ अन्य पर क्रोध
 करनेवाला । २ अन्य-विषयक अज्ञान रखने-
 वाला (ठा ४, २—पत्र २१६) ।

परतु अ [परन्तु] किन्तु (सुभा ४६६) ।

परदम वि [परन्दम] १ अन्य को पीडा
 पहुँचाने वाला (उत्त ७, ६) । २ अन्य को
 शान्त करनेवाला । ३ अश्व आदि को
 सिखानेवाला (ठा ४, २—पत्र २१३) ।

परपर } वि [परम्पर] १ भिन्न भिन्न
 परपररा } (एदि) । २ व्यवहित, 'परपर-
 परपरय' सिद्ध—' (परण १, ठा २, १,
 १०) । ३ पुन परम्परा, अविच्छिन्न धारा
 (उप ७३३), 'पुरिसपरपरएण तेहिं इट्ठगा
 आणिया', 'एस दव्वपरपरगो' (आव १),
 'परंपरेण' (कप्प, धर्मस ५३१, १३०६) ।

परपरा स्त्री [परम्परा] १ अनुक्रम, परिपाटी
 (भग, श्रौप, पाप्र) । २ अविच्छिन्न धारा,
 प्रवाह (शाया १, १) । ३ निरन्तरता, अ-
 व्यवधान (भग ६, १) । ४ व्यवधान, अन्तर,

'अणतरोववरणगा चेव परपरोववरणगा
 चेव' (ठा २, २, भग १३, १) ।

परभरि वि [परम्भरि] दूसरे का पेट भरने-
 वाला (ठा ४, ३—पत्र २४७) ।

परसुह वि [पराड्मुख] मुँह-फिरा, विमुख
 (पि २६७) ।

परकीअ वि [परकीय] अन्य-सम्बन्धी, इतर
 परकेर } से सम्बन्ध रखनेवाला (विसे ४१,
 परक } सुभा ३४६, अमि १५१, षड्;
 स्वप्न ४०, स २०७, षड्), 'न सेवियव्वा
 पमया परक्का' (गोय १३) ।

परक न [दे] छोटा प्रवाह (दि ६, ८) ।

परकत वि [पराक्रान्त] १ जिसने पराक्रम
 किया हो वह । २ अन्य से आक्रान्त, 'गामा-
 णुगाम दूइज्जमाणस्स दुज्जायं दुप्परकत
 भवइ' (आचा) । ३ न पराक्रम, बल । ४
 उद्यम, प्रयत्न । ५ अनुष्ठान, 'जे अशुद्धा
 महाभागा वीरा असम्मत्तदसिणो, असुद्ध
 वेसि परकत' (सूअ १, ८, २२) ।

परकम अक [परा + क्रम्] पराक्रम
 करना । परकमे परकमेज्जा, परकमेज्जात्ति
 (आचा) । वक्क परकमंत, परकममाण
 (आचा) । क्क परकमियव्व, परकम्म
 (शाया १, १, सूअ १, १, १) ।

परकम सक [परा + क्रम्] १ जाना ।
 २ आसेवन करना । ३ अक प्रवृत्ति करना ।
 परकमे (दस ५, १, ६) । परकमिज्जा
 (दस ८, ४१) । सक परकम्म (दस
 ८, ३२) ।

परकम पु [पराक्रम] गतं आदि से भिन्न
 मार्ग (दस ५, १, ४) ।

परकम पुन [पराक्रम] १ वीर्य, बल, शक्ति,
 सामर्थ्य (विसे १०४६, ठा ३, १, कुमा),
 'त्तस्स परकम गीयमाण न तए सुयं'
 (मम्मत्त १७६) । २ उत्साह । ३ जेष्टा,
 प्रयत्न (आचू १, प्रासू ६३, आचा) । ४
 शत्रु का नाश करने की शक्ति (ज ३) । ५
 पर-आक्रमण, पर-पराजय (ठा ४, १,
 आवम) । ६ गमन, गति (सूअ २, १, ६) ।
 ७ मार्ग (दश० अ० चू० सू० ८६) ।

परकमि वि [पराकमिन्] पराक्रम-संपन्न
 (धर्मवि १६, १२०) ।

परियाणिअ पुंन [परियानिक] १ यान, वाहन । २ विमान-विशेष (ठा ८) ।
 परियादि देखो परियाइ । परियादियति (कप्प) । सक्क परियादिच्चा (कप्प) ।
 परियाय देखो पज्जाय (ठा ४, ४, सुपा १६, विसे २७६१, श्रौप, आचा, उवा) । ६ श्रमिप्राय, मत, 'सएहिं परियाएहिं लोय वूया कडेति य' (सुप्र १, १, ३, ६) । १० प्रबन्ध्या, दीक्षा (ठा ३, २—पत्र १२६) । ११ ब्रह्मचर्यं (आव ४) । १२ जिन-देव के केवल-ज्ञान की उत्पत्ति का समय (खाया १, ८) । १३ श्रेर पुं [स्थविर] दीक्षा की अपेक्षा से बृद्ध (ठा ३, २) ।
 परियायतकरभूमि स्त्री [पर्यायान्तकृद्-भूमि] जिन देव के केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय से लेकर तदनन्तर सर्व प्रथम मुक्ति पानेवाले के बीच के समय का आन्तर (खाया १, ८—पत्र १५४) ।
 परियार सक [परि + चारय] १ सेवा-शुश्रूषा करना । २ समोग करना, विषय-सेवन करना । परियारेइ (ठा ३, १, भग) । बह्क परियारेमाण (राज) । कवक्क परियारिज्जमाण (ठा १०) ।
 परियार पु [परिचार] मैथुन, विषय-सेवन (पण ३४—पत्र ७८०, ठा ३, १) ।
 परियारग वि [परिचारक] १ विषय-सेवन करनेवाला (पण २, ठा २, ४) । २ सेवा-शुश्रूषा करनेवाला (विपा १, १) ।
 परियारण न [परिचारण] १ सेवा-शुश्रूषा (सुज १८—पत्र २६५) । २ काम-भोग (पण ३४) ।
 परियारणया स्त्री [परिचारणा] ऊपर परियारणा देखो (पण ३४, ठा ५, १) । 'सह पु [शब्द] विषय-सेवन के समय का स्त्री का शब्द (निबु १) ।
 परियाल देखो परिवार (राय ५४) ।
 परियालोयण न [पर्यालोचन] विचार, चिन्तन (सुपा ५००) ।
 परियाव देखो परिताव = परिताप (आचा, शोध १५४) ।
 परियावज्ज अक [पर्या + पद्] १ पीडित होना । २ रूपान्तर में परिवर्तित होना । ३

सक. सेवना । परियावज्जइ, परियावज्जति (कप्प, आचा) ।
 परियावज्जण न [पर्यापादन] रूपान्तर-प्राप्ति (पिड २८०) ।
 परियावज्जणा स्त्री [पर्यापादन] आसेवन (ठा ३, ४—पत्र १७४) ।
 परियावण देखो परितावण (सुप्र २, २, ६२) ।
 परियावणा स्त्री [परितापना] परिताप, सताप (श्रौप) ।
 परियावणिया स्त्री [परियापनिका] कालान्तर तक अवस्थान, स्थिति (खाया १, १४—पत्र १८६) ।
 परियावण्ण वि [पर्यापन्न] स्थित, अव-परियावण्ण स्त्रियत (आचा २, १, ११०७, ८० भग ३४, २, कस) ।
 परियावण्ण वि [पर्यापन्न] लब्ध, प्राप्त (आचा २, १, ६, ६) ।
 परियावस सक [पर्या + वासय] आवास कराना । परियावसे (उत्त १८, ५४, सुज १८, ५४) ।
 परियावसह पु [पर्याधसथ] मठ, सन्यासी का स्थान (आचा २, १, ८, २) ।
 परियाविय वि [परितापित] पीडित (पिड) ।
 परियासिय वि [परिवासित] वासी रखा हुआ (कस) ।
 परिरंज सक [भञ्ज] भाँगना, तोडना । परिरंजइ (प्राक्क ७४) ।
 परिरंभ सक [परि + रंभ] आलिंगन करना । परिरंभस्तु (शौ) (पि ४६७) । सक्क परिरंभइ (कुप्र २४२) ।
 परिरंभण न [परिरंभण] आलिङ्गन (पाप्र, गा ८३५, सुपा २, ३६६) ।
 परिरक्ख सक [परि + रक्ख] परिपालन करना । परिरक्खइ (भवि) । क्क परिरक्खणीअ (सिक्खा ३१) ।
 परिरक्खण न [परिरक्षण] परिपालन (गा ६०१, भवि) ।
 परिरक्खा स्त्री [परिरक्षा] ऊपर देखो (पउम ५६, ५३, धर्मवि ५३, गउड) ।
 परिरक्खिय वि [परिरक्षित] परिपालित (भवि) ।

परिरद्ध वि [परिरन्ध] आलिङ्गित (गा ३६८) ।
 परिरय पु [परिरय] १ परिधि, परिक्षेप (उत्त ३६, ५६, पउम ८६, ६१, पव १५८, श्रौप) । २ पर्याय, समानार्थक शब्द. 'एणपरिरय ति वा एणपज्जाय ति वा एणणामभेद ति वा एणट्ठा' (आच् १) । ३ परिभ्रमण, फिर कर जाना. 'अहवा येरो, तस्स य अतरा ह्वा डोगरा वा, जे समत्या ते उज्जुएण वच्चति, जो अत्तमत्यो सो परिरएण—भमा-डेण वच्चइ' (शोधभा २० टी) ।
 परिराय अक [परि + राज्] विराजना, शोभना । वक्क परिरायमाण (कप्प) ।
 परिरिख सक [परि + रिख्] चलना, फरकना, हिलना । वक्क परिरिखमाण (उप ५३० टी) ।
 परिरुभ सक [परि + रुभ्] रोकना, अटकाना । कर्म परिरुभइ (गउड ४३४) । संक्क परिरभिउण (उवकु १) ।
 परिलिधि वि [परिलिध्ण] लघन करनेवाला (गउड) ।
 परिलिधि वि [परिलिध्ण] लटकनेवाला (गउड) ।
 परिलिभिअ वि [परिलिभिअ] प्राप्त कराय हुआ, 'सो गयवरो मुणीण (मुणीहिं) वयाणि परिलिभिओ पसन्नपपा' (पउम ८४, १) ।
 परिलिग्ग वि [परिलिग्ग] लगा हुआ, व्यापृत (उप ३५६ टी) ।
 परिलिअ वि [दे] लीन, तन्मय (दे ६, २४) ।
 परिली अक [परि + ली] लीन होना । वक्क परिलिअ, परिलिअ, परिलीयमाण (खाया १, १—पत्र ५, श्रौप, से ६, ४८, पण १, ३, राय) ।
 परिली स्त्री [दे] आतोय-विशेष, एक तरह का बाजा (राज) ।
 परिलीण वि [परिलीण] निलीन (पाप्र) ।
 परिलुंय सक [परि + लुंय] लुप्त करना, अट्ट करना । कवक्क परिलुंयमाण (महा) ।
 परिलिअ देखो परिली = परि + ली ।
 परिलोयण न [परिलोचन, परिलोकन] अवलोकन, निरीक्षण । २ वि देखनेवाला. 'जुगतपरिलोयणाए दिट्ठीए' (उवा) ।

परसुहृत् पु [दे] वृक्ष, पेड, दरख्त (दे ६, २६) ।
 परस्सर पुली [दे पराशर] गेडा, पशु विशेष (पण्य १, राज) । ओ री (पण्य ११) ।
 परहुत् वि [पराभूत्] पराजित, हराया गया (पञ्च ६१, ८) ।
 परा अ [परा] इत अर्थों का सूचक अव्यय—
 १ आभिमुख्य, समुच्चता । २ ध्याय । ३ धर्मण । ४ प्राधान्य, मुख्यता । ५ विक्रम । ६ गति, गमन । ७ भङ्ग । ८ अनादर । ९ विरस्कार । १० प्रत्यावर्तन (हे २, २१७) । ११ भ्रम, अत्यन्त (छा ३, २, या २३) ।
 परा ली [दे परा] वृण विशेष (पण्य २, ३—पत्र १२३) ।
 पराइ सक [परा + जि] हराना, पराजय करना । सक पराइइत्ता (सूत्रति १६६) ।
 पराइअ वि [पराजित] पराभव-प्राप्त (पञ्च २, ८६, औप, न ६३४, सुर ६, २५, १३, १७१, उत ३२, १२) ।
 पराडअ (अप) वि [परागत] गया हुआ (भवि) ।
 पराइण देखो पराजिण । पराइणइ (पि ४७३, मग) ।
 पराट् ली [परकीया] इतर स संबन्ध रखने-वाली, वह नायिका जो परपुरुष से प्रेम करे (हे ४, ३५०, ३६७) । देखो पराय = परकीय ।
 पराक्रम देखो परक्रम (सूत्र २, १, ६) ।
 पराकृत वि [पराकृत] निराकृत, निरस्त (पञ्च ०) ।
 परानर मा [परा + कृ] निराकरण करना । परानरोरि (शो) (नाट—चैत ३५) ।
 पराजय पु [पराजय] परिभव, अभिभव, हार (राज) ।
 पराजय } मव [परा + जि] पराजय पराजिण } करना, हराना । भूना पराज-दिन (पि ५१७) । भवि पराजिणित्वाद् (पि ५२१) । गट पराजिणित्ता (छा ४, २) । पराजिणित्ता (मग ७, ६) ।
 पराजिणय } देनो पराटअ = पराजित पराजिण } (उप पु ५२, महा) ।
 पराण गे पाण = प्रण (नाट—चैत ५४, पि १३०) ।

पराणग वि [परकीय] अन्य का, दूसरे का, 'जल्प हिरण्यसुवराण हत्येण पराणगपि नो छिन्ने' (गच्छ २, ५०) ।
 पराणिय वि [पराणीत्] पहुँचा हुआ (भवि) ।
 पराणी सक [परा + णी] पहुँचाना । पराणए (भवि) । पराणेमि (स २३४), 'जइ भएसि ता निमेसमित्तेण तुम तायमदिर पराणेमि' (कुप्र ६०) ।
 परानयण न [पराणयन] पहुँचाना, नियम-पिणीपरानयणे का लज्जा, अवि य ऊसवो एस' (उप ७२८ टी) ।
 पराभव सक [परा + भू] हराना । कवक पराभवजित, परठभवमाण (उप ३२० टी, छाया १, २, १८) ।
 पराभव पु [पराभव] पराजय, हार (विपा १, १) ।
 पराभविअ वि [पराभूत्] अभिभूत, हराया हुआ (धर्मवि ६८) ।
 परामट्ट देखो परामुट्ट (पञ्च ६८, ७३) ।
 परामरिस सक [परा + मृश] १ विचार करना, विवेचन करना । २ स्पर्श करना । परामरिसइ (भवि) । कक परामरिसंत (भवि) । सक परामरिसिअ (नाट—गुच्छ ८७) ।
 परामरिस पु [परामर्श] १ विवेचन, विचार (प्राभा) । २ युक्ति, उपति । ३ स्पर्श । ४ न्याय-शास्त्रोक्त व्याप्ति-विशिष्ट रूप से पक्ष का ज्ञान (हे २, १०५) ।
 परामिट्ट } वि [परासृष्ट] १ विचारित, परामुट्ट } विवेचित । २ सृष्ट, छुआ हुआ (नाट—गुच्छ ३३, हे १ १३१, स १००, कुप्र ५१) ।
 परामुस नरु [परा + मृग] १ स्पर्श करना, छूना । २ विचार करना, विवेचन करना । ३ आच्छादित करना । ४ पीछना । ५ लोप करना । परामुसइ (कस) । कर्म 'मूरो परामुनिलइ खामिहुक्खित्तपूलिहि' (उप १२३) । कक 'नियत्तरिज्जेण नयणाइ परामुमतेण भणिय' (कुप्र ६६) । कवक परामुसिज्जमाण (स ३४६) ।
 परामुमि देनो परामुट्ट (महा, पात्र) ।

पराय अक [अ + राज्] विशेष शोभना । कक परायत्त (कप) ।
 पराय पु [पराय] १ धुली, रज, रिंगू पंख रओ पराओ य' (पात्र) । २ पुष्प-रज (कुमा, गड्ड) ।
 पराय } वि [परकीय] पर-सवन्धी, इतर परायण } से संबन्ध रखनेवाला, 'नो अप्पणा पराया गुत्थो कइयावि हुंति सुद्धाण' (सिद्धि १०५, हे ४, ३७६, मग ८, ५) ।
 परायण वि [परायण] तत्पर (कम्म १, ६१) ।
 परारि अ [परारि] आगामी तीसरा वर्ष (प्रासु ११०, वै २) ।
 पराल देखो पलाल (प्रासु १३८) ।
 पराव (अप) सक [अ + आप्] प्राप्त करना । परावहि (हे ४, ४४२) ।
 परावत्त अक [परा + वृत्] १ बदलना, पलटना । २ पीछे लौटना । परावत्तइ (उवर ८८) । कक परावत्तमाण (रज्ज) ।
 परावत्त सक [परा + वर्तय्] १ फिराना । २ आश्रुति करना । परावत्तहि (पव ७६), परावत्तसि (मोह ४७) । सक 'ती सागंगण भणिय अरे परावत्तिऊण निययपह' (कुप्र ३७८) ।
 परावत्त पु [परावर्त] परिवर्तन, हेरफेर, हेराफेरी (स ६२, उप पु २७, महा) ।
 परावत्ति वि [परावर्त्तिन्] परिवर्तन करने-वाला, 'विसपरावत्तिणी गुलिया' (महा) ।
 परावत्ति ली [परावृत्ति] परिवर्तन, हेराफेरी (उप १०३१ टी) ।
 परावत्तिय वि [परावर्त्तित] परिवर्तित, बदला हुआ (महा) ।
 परासर पु [पराशर] १ पशु-विशेष (राज) । २ अग्नि-विशेष (औप, गा ८६२) ।
 परासु वि [परासु] प्राण-रहित, मृत (क्षा १४, धर्मस ६७) ।
 पराहव देखो पराभव = पराभव (शुण ६) ।
 पराहुत्त वि [दे पराहुत्त] विमुक्त, मुँह-फिरा (ग २४५, से १०, ६४, उप पु ३८८, औप ५१४, वज्जा २६), 'महविणयपराहुत्तो' (पञ्च ३३, ७४, सुख २, १७) ।

परिवाइय वि [परिवाचित] पढा हुआ (पउम ३७, १५)।

परिवाई स्त्री [परिवाद्] कलक-वार्ता, 'दह-यस्स ताव वत्ता जणपरिवाई लहु पत्ता' (पउम ६५, ४१)।

परिवाड सक [घटय्] १ घटाना, सगत करना। २ रचना, निर्माण करना। परिवाडेइ (हे ४, ५०)।

परिवाडल देखो परिपाडल (गडड)।

परिवाडि स्त्री [परिपाटि] १ पद्धति, रीति (विसे १०८५)। २ पक्ति, श्रेणि (उत्त १, ३२)। ३ क्रम, परंपरा (सवे ६)। ४ सूत्रार्थ-वाचना, अध्यापन, 'थिरपरिवाडी गहियवक्को' (धम्मवि ३६), 'एणत्थोहि वट्ठि न करे परिवाडिदारणमवि तासि' (कुलक ११)।

परिवाडिअ वि [घटित] रचित (कुमा)।

परिवाडी देखो परिवाडि, 'परिवाडीआगय हवइ रज्ज' (पउम ३१, १०६, पाअ)।

परिवाद पु [परिवाद्] निन्दा, दोष-कीर्तन (धम्मसं ६५४)।

परिवादिणी स्त्री [परिवादिनी] बीणा विशेष (राज)।

परिवाय देखो परिवाद् (कम्प, औप, पउम ६५, ६०, णाया १, १, स ३२, आत्महि १५)।

परिवायग पु [परिवाजक] सन्यासी, परिवायय स्त्री बाबा, (सण, सुर १५, ५)।

परिवायणी स्त्री [परिवादनी] सात ताँतवाली बीणा (राय ४६)।

परिवार सक [परि + वारय्] १ वेष्टन करना। २ कुटुम्ब करना। वक्क परिवारयत (उत्त १३, १४)। सक्क परिवारिया (सूअ १, ३, २, २)।

परिवार पुं [परिवार] गृह-लोक, घर के मनुष्य (औप, महा, कुमा)। २ न, म्यान (पाअ)।

परिवारण न [परिवारण] १ निराकरण (पएह १, १—पत्र १६)। २ आच्छादन, ढकना (दे १, ८६)।

परिवारिअ वि [दे] घटित, रचित (दे ६, ३०)।

परिवारिअ वि [परिवारित] १ परिवार-सपन्न। २ वेष्टित, 'जहा से उडुवई वदे नक्खत्तपरिवारिए' (उत्त ११, २५, काल)।

परिवाल देखो परिआल। परिवालइ (दे ६, ३५ टी)।

परिवाल सक [परि + पालय्] पालन करना। परिवालइ, परिवालैइ (भवि, महा)। वक्क परिवाल्यत (सुर १, १७१)। सक्क परिवालिय (राज)।

परिवाल देखो परिवार = परिवार (णाया १, ८—पत्र १३१)।

परिवाविय वि [परिवापित] उखाड कर फिर से बोया हुआ (डा ४, ४)।

परिवाविया स्त्री [परिवापिता] बीणा-विशेष फिर से महाव्रतो का आरोपण (डा ४, ४)।

परिवास पु [दे] खेत में सोनेवाला पुरुष (दे ६, २६)।

परिवास न [परिवासस्] वक्क, कपडा, 'जधोरुययुज्जभतरपासइ सुनियत्थइ मि भीण-परिवासइ' (भवि)।

परिवासि वि [परिवासिन्] बसनेवाला (सुपा ४२)।

परिवासिय वि [परिवासित] सुवासित, सुगन्ध-युक्त, 'मयपरिअलपरिवासियदूरे' (भवि)।

परिवाह सक [परि + वाहय्] १ वहन कराना। २ अश्वदि खेलाना, अश्वदि-क्रीडा करना, 'विवरीयसिक्खतुरय परिवाहइ वाहियालीए' (महा)।

परिवाह पु [परिवाह] जल का उछाल, बहाव,

'भरिउच्चरंतपसरिअपिअस भरणपिसुणो वराईए। परिवाहो विअ दुक्खत्स वहइ अअणट्टिओ वाहो' (गा ३७७)।

परिवाह पु [दे] दुविनय, अविनय (दे ६, २३)।

परिवाहण न [परिवाहन] अश्वदि-खेलन, 'आसपरिवाहणनिमित्त गएण' (स ८१, महा)।

परिवाआल सक [परि + विश्] वेष्टन करना। परिवाआलइ (प्राक्क ७५, धात्वा १४४)।

परिविचिड्ड अक [परिवि + स्था] १ उत्पन्न होना। २ रहना। परिविचिड्ड (आचा १, ४, २, २, पि ४८३)।

परिविच्छय वि [परिविक्षत] सर्वथा छिन्न-हृत (सूअ १, ३, १, २)।

परिविड्ड वि [परिविष्ट] परोसा हुआ (स १८६, सुपा ६२३)।

परिवित्तस अक [परिवि + त्रस्] डरना। परिवित्तसति, परिवित्तसेजा (आचा १, ६, ५, ५)।

परिवित्ति स्त्री [परिवृत्ति] परिवर्तन (सुपा ५८७)।

परिविद्ध वि [परिविद्ध] जो विधा गया हो वह (सुपा २७०)।

परिविद्धस सक [परिवि + ध्वसय्] १ विनाश करना। २ परिताप उपजाना। सक्क परिविद्धसित्ता (भग)।

परिविद्धत्थ वि [परिविध्वस्त] १ विनष्ट। २ परितापित (सूअ २, ३, १)।

परिविष्फुरिय वि [परिविष्फुरित] स्फूर्ति-युक्त (सण)।

परिवियलिय वि [परिविगलित] हुआ हुआ, टपका हुआ (सण)।

परिवियलिर वि [परिविगलित्] झूनेवाला, झूनेवाला (सण)।

परिविरल वि [परिविरल] विशेष विरल (गडड, गा ३२६)।

परिविलसिर वि [परिविलसित्] विलासी (सण)।

परिविस सक [परि + विश्] वेष्टन करना। परिविसइ (प्राक्क ७५)।

परिविस सक [परि + विप्] परोसना, खिलाना। सक्क परिविसस (उत्त १४, ६)।

परिवियास पुं [परिविवाद] समन्तात् खेद (धम्मवि १२६)।

परिविहुरिय वि [परिविधुरित] अति पीडित, 'मणिसुयपदेविकरपरिविहुरिओ गय मांतु' (सुर १५, १५)।

परिवीअ सक [परि + वीजय्] मंवा करना, हवा करना। परिवीएमि (स ६७)।

परिवीइअ वि [परिवीजित] जिसको हवा की गई हो वह (उप २११ टी)।

परिअत्ता—परिकम्मण

के वच्य या उदय को रोक कर स्वयं वच्य या उदय को प्राप्त होती है (पच ३, १४, ३, ४३, कम्म ५, १ टी)।

परिअत्ता लो [परिवर्ता] ऊपर देखो (कम्म ५, १)।

परिअत्तिअ वि [परिवर्तित] १ मोडा हुआ, 'वात्तिअयं परिअत्तिअ' (पाअ)। २ देखो परिअट्टिय (भवि)।

परिअर सक [परि + चर्] सेवा करना। वक्क परिअरन (नाट—शकु १५८)।

परिअर वि [दे] लीन, निगमन (दे ६, २४)।

परिअर पु [परिकर] १ कटि कवच, 'सुन्दर-वद्धपरियरभेहि' (भवि)। २ परिवार, 'किरण-वितामियपरियरभुषणविसजलणधूममतिमिरेहि' (गड, वेद्य ६४)।

परिअर पु [परिचर] सेवक, भृत्य, 'अणु-खिज्जत रस्सापरिअरभुअणववल्चामारणहिण' (गड)।

परिअरण न [परिचरण] सेवा (संबोध ३६)।

परिअरणा लो [परिचरणा] सेवा (सम्मत् २१५)।

परिअरिय वि [परिकरिन, परिच्युत] १ परि-वार-युक्त, 'हयगयरहजोहसुहुहपरिअरिओ' (महा, भवि सण)। २ परिवेष्टित, 'तयो त समामरणजण सुहसुह ताए गेय समतयो परिअरिया सञ्जलोगेण' (महा, सिरि १२८२)।

परिअर मरु [गम्] जाना, गमन करना। परिअरन (हे ४, १६२)।

परिअरल } पुअो [दे] धान, शक्तिया भोजन-
परिअरलि } पाअ (भवि, दे ६, १२)।

परिअरलिअ वि [गन्] गया हुआ (धुमा)।

परिअर २-नो परिअरल। परिअरल (हे ४, १६२)। चट परिअरल्लिअण (धुमा)।

परिअरअ वि [परिचारक] सेवक, भृत्य (नाट "३)। ओ परिअरिआ (अभि १६६)।

परिअर मरु [वेटन्] वेटन करना, लपटना। परिअरने (हे ४, ५१)।

परिअर वि [दे] परिवृत्त, परिवेष्टित, मो उदर जामन्त्याममाए-

मुगन्निवसपरिअरिआ।

वच्छिनिवेशतेउरवई व

जो बहइ वणमाल' (गड)।

परिआल देखो परिवार (शाया १, ८, ठा ४, २, औप)।

परिआलिअ वि [वेष्टित] लपेटा हुआ, वेडा हुआ (कुमा, पाअ)।

परिआव देखो परिताव (वस ६, २, १४)।

परिआविअ सक [पर्या + पा] पीना। परिआविअ (सूअ २, १, ४६)।

परिआससत (अप) अ [पर्यासमन्तात्] चारो ओर से (भवि)।

परिइ सक [परि + इ] पर्यटन करना। परि-यति (उत्त २७, १३)।

परिइण वि [परिकीर्ण] व्याप्त (सम्मत् १५६)।

परिइद (शौ) वि [परिचित] परिचय विशिष्ट, ज्ञात, पहचाना हुआ (अभि २४५)।

परिउव सक [परि + चुम्बन्] चुम्बन करना। परिउवइ (भवि)।

परिउवण न [परिचुम्बन] सर्वत चुम्बन (गा २२, हाअ १३४)।

परिउवणा लो [परिचुम्बना] ऊपर देखो, 'गडपरिउवणापुलअअण ख पुणो चिराइस' (गा २०)।

परिउविअय वि [पर्युविअत] सर्वथा व्यक्त (सण)।

परिउट्ट वि [परिउट्ट] विशेष तुट (स ७३४)।

परिउत्थ वि [दे] प्रोषित, प्रवास में गया हुआ (दे ६, १३)।

परिउसिअ वि [पर्युषित] बासी, ठण्डा, भाफ निकला हुआ (भोजन) (दे १, ३७)।

परिउड वि [दे परिगूड] क्षाम, कृप, पतला, 'उणुल्लिअाद वेज्जण मा

ए वारेहि होठ परिउडा।

मा जहणमारगई पुसिआअती

किलिमिहिइ' (गा १६६)।

परिउरण न [परिपूरण] परिपूर्ति (नाट—शकु ८)।

परिअस देखो परिवेस = परि + विप्। कवक्क परिअसिअमाण (भाचा २, १, २, १)।

परिअस देखो परिवेस = परिवेस (स ३१२)।

परिओस सक [परि + तोषय्] संतुष्ट करना, खुशी करना। परिओसइ (भवि, सण)।

परिओस पुं [परितोष] आनन्द, संतोष, खुशी (से ११, ३, गा ६८, २०६, स ६, सुपा ३७०)।

परिओस पु [दे परिट्टेप] विशेष ट्टेप (भवि)।

परिओसिय वि [परितोषित] सतुष्ट किया हुआ (से १३, २५, भवि)।

परित देखो परी = परि + इ।

परिकल सक [परि + काइक्ष] १ विशेष अभिलाषा करना। २ प्रतीक्षा करना। परिकलए (उत्त ७, २)।

परिकइ पु [परिकन्द] आनन्द, चित्लाहट (हम्मोर ३०)।

परिकपि वि [परिकम्पिन्] अतिशय कँपानेवाला (गड)।

परिकपिर वि [परिकम्पित्] विशेष कँपने-वाला (सण)।

परिकच्छिय वि [परिकक्षित] परिगृहीत (राअ)।

परिकट्टिअ वि [दे] एकत्र पियडोकृत (पिड २३६)।

परिकड्ड सक [परि + कृष्] १ पार्श्व भाग में खीचना। २ प्रारम्भ करना। वक्क परिकड्डेमाण (राअ)। संड परिकड्डिअण (पच २)।

परिकडिण वि [परिकठिन] अत्यन्त कठिन (गड)।

परिकप सक [परि + कल्पय्] १ निष्पादन करना। २ कल्पना करना।

परिकपयति (सूअ १, ७, १३)। सक, परिकपिअण (वेद्य १४)।

परिकप्पिय वि [परिकल्पित] छिन्न, काटा हुआ (पएह १, ३)। देखो परिगपिअय।

परिकड्डुर वि [परिकट्टुर] विशेष कवरा—चितकवरा (गड)।

परिकम्म } न [परिकर्मन्] १ गुण-विशेष
परिकम्मण } का आधान, संस्कार-करण,
'परिकम्म किरियाए वत्थूण गुणविसेस-

परिसड अक [परि + शट्] उपयुक्त होना ।
परिसडइ (आचा २, १, ६, ६) ।
परिसडिय वि [परिडाटित] सडा हुआ,
विनष्ट (शाया १, २, औप) ।
परिसणह वि [परिभ्रक्षण] सूक्ष्म, छोटा (से
१, १, १) ।
परिसन्न वि [परिषण्ण] जो हैरान हुआ हो,
पीडित (पउम १७, ३०) ।
परिसप्प सक [परि + सप्] चलना ।
परिसप्पेइ (नाट—विक्र ६१) ।
परिसप्पि वि [परिसप्पिन्] १ चलनेवाला
(कप्प) । २ पुत्री हाथ और पैर से चलने-
वाला जन्तु—नकुल, सर्प आदि प्राणि-
गण । औं पी (जीव २) ।
परिसम देखो परिरसम (महा) ।
परिसमत्त वि [परिसमाप्त] सम्पूर्ण, जो पूरा
हुआ हो वह (से १५, ६५, सुर १५,
२५०) ।
परिसमत्ति स्त्री [परिसमाप्ति] समाप्ति'
पूर्णता (उप ३५७, स ५२) ।
परिसमापिय वि [परिसमापित] जो समाप्त
किया गया हो, पूरा किया हुआ (विसे
३६०२) ।
परिसमाव सक [परिसम् + आप्] पूर्ण
करना । सक परिसमाविअ (अभि ११६) ।
परिसर पु [परिसर] नगर आदि के समीप
का स्थान (औप, सुपा १३०, मोह ७६) ।
परिसाल्लिय वि [परिशाल्लियत्] शल्य-युक्त
(सण) ।
परिसव सक [परि + सव्] करना, टपकना ।
वक्क परिसवत्त (तदु ३६, ४१) ।
परिसह पुं [परिपह] देखो परीसह (भग) ।
परिसा स्त्री [परिपट्] १ समा, पर्पट् (पात्र,
औप, उवा, विपा १, १) । २ परिवार (अ
३, २—पत्र १२७) ।
परिसाइ देखो परिस्ताइ (राज) ।
परिसाइयाण देखो परिसाव ।
परिसाइ सक [परि + शाट्] १ ध्याग
करना । २ भ्रमण करना । परिसाइइ (कप्प,
भग) । सक, परिसाइइत्ता (भग) ।

परिसाइ सक [परि + शाट्] १ इधर-
उधर फँकना । २ भरना । ३ रखना, 'परिसा-
डिज्ज भोग्गण' (दस ५, १, २८) । परिसा-
डित्ति, भूका परिसाइसु, भवि परिसाइस्सत्ति
(आचा २, १०, २) ।
परिसाइणा स्त्री [परिशाटना] वपन, बोना
(वव १) ।
परिसाइणा स्त्री [परिशाटना] वृथक्करण
(सूअनि ७, २०) ।
परिसाइ वि [परिशाटिन्] परिशादन-युक्त
(ओघ ३१) ।
परिसाइ वि [परिशाटि] परिशादन, 'वृथ-
करण (पिड ५५२) ।
परिसाइयि स्त्री [परिशात्ति] गिराया हुआ
(दस ५, १, ६६) ।
परिसाम अक [शम्] शान्त होना । परि-
सामइ (हे ४, १६७) ।
परिसाम वि [परिश्याम] नीचे देखो
(गडड) ।
परिसामल वि [परिश्यामल] कृष्ण, काला
(गडड) ।
परिसामिअ वि [शान्त] शान्त, शम युक्त
(कुमा) ।
परिसामिअ वि [परिश्यामित] कृष्ण किया
हुआ (शाया १, १) ।
परिसाव सक [परि + खावय्] १ निचो-
डना । २ गलना । सक, परिसावियाण
(आचा २, १, ८, १) ।
परिसावि देखो परिस्सावि (वृह १) ।
परिसाहिय वि [परिकथित] प्रतिपादित,
उक्त (सण) ।
परिसिच्च सक [परि + सिच्] सीचना ।
परिसिच्चिजा (उत्त २, ६) । वक्क परिसिच्च-
माण (शाया १, १) । कवक्क परिसिच्चमाण
(कप्प, पि ५४२) ।
परिसिट्ट वि [परिशिष्ट] अवशिष्ट, बाकी
बचा हुआ (आचा १, २, ३, ५) ।
परिसिद्धिलि वि [परिशिथिलि] विशेष शायिल,
ढोला (गडड) ।
परिसिच्च वि [परिपिक्] १ सीचा हुआ
(गा १८५, सण) । २ न परिपेक, सेचन
(पणह १, १) ।

परिसिद्ध वि [पर्पट्] परिषद् वाला
(वृह ३) ।
परिसील सक [परि + शील्य्] श्रम्यास
करना, श्रावत डालना । सक, परिसीलिवि
(अप) (सण) ।
परिसीलण न [परिशीलन] श्रम्यास, श्रावत
(रभा, सण) ।
परिसीलिय वि [परिशीलित] श्रम्यस्त
(सण) ।
परिसीसग देखो पडिसीसअ (राज) ।
परिसुक्क वि [परिशुक्क] खूब सूखा हुआ
(विपा १, २, गडड) ।
परिसुण्ण वि [परिशून्य] खाली, रिक्त, सुन्न
(से ११, ८७) ।
परिसुत्त वि [परिसुत्त] सर्वथा सोया हुआ
(नाट—उत्तर २३) ।
परिसुद्ध वि [परिशुद्ध] निर्मल, निर्दोष (उव,
गडड) ।
परिसुद्धि स्त्री [परिशुद्धि] विशुद्धि, निर्मलता
(गडड, द्र ६५) ।
परिसुन्न देखो परिसुण्ण (विसे २८५०,
सण) ।
परिसुस (अप) सक [परि + शोपय्]
सुखाना । सक परिसुसवि (अप) (सण) ।
परिसुअणा स्त्री [परिसूचना] सूचना (सुपा
३०) ।
परिसेय पुं [परिपेक] सेचन (ओघ ३४७) ।
परिसेस पु [परिशेष] १ बाकी बचा हुआ,
अवशिष्ट (से १०, २३, पउम ३५, ४०, गा
८८, कम्म ६, ६०) । २ अनुमान प्रमाण का
एक भेद, परिशेषानुमान (धर्मसं ६८, ६६) ।
परिसेसिअ वि [परिशेषित] १ बाकी बचा
हुआ (भग) । २ परिच्छिन्न, निर्णीत,
'उत्तमसि उच्चमनु कट्टिसि
कट्टुपु अह फुडसि हिअप्र ता फुडमु ।
तहवि परिसेसिअो च्चिअ
सो हु मए गलिअसन्भावो' (गा ४०१) ।
परिसेह पुं [परिपेध] प्रतिपेध, निवारण,
'पावट्टाणाण जो उ परिसेहो, भाएणमयाणा-
ईए जो य विहो, एस धम्मकसो' (कान) ।

परिक्खेवि वि [परिक्षेपिन्] तिरस्कार करनेवाला (उत्त ११, न)।
 परिस्सव पु [दे] काहार, कहार, जलादि-वाहक, नोकर (दे २, २७)।
 परिस्सज्ज सक [परि + खर्ज्] खुजाना, खुजलाना। क्वक्क 'परिखज्जमाणमत्ययदेसो' (उप ६८६ टि)।
 परिस्सण न [परीक्षण] परीक्षा-करण, परीक्षा लेने, परखने या जाँच करने का काम (पव ३८)।
 परिस्सिय वि [परिक्षिपित] परिक्षीण, 'गुरुश्रद्धं ऋणपरिखिवियसरीरो' (महा)।
 परिस्साम वि [परिक्षाम] अति दुर्बल, विशेष कृश (गा १६६)।
 परिस्सित्त देखो परिस्सित्त (सण)।
 परिस्सिय देखो परिक्खिवव। परिक्खिवह (अति), 'सामा त परिक्खिवई दोहगवईण मज्झमि' (सम्मत्त २१७, चेइय ६५५)।
 परिस्सिविय देखो परिक्खित्त (सण)।
 परिस्सुहिय वि [परिक्षुब्ध] अतिशय क्षोभ को प्रान्त (अवि)।
 परिस्सिइय वि [परिखेदित] विशेष खिन्न किया हुआ (सण)।
 परिस्सिइय (शो) पु [परिखेद] विशेष खेद (स्वप्न १०, ८०)।
 परिस्सिय मक [परि + खेदय्] अतिशय गिन्न करना। परिस्सिइय (सण)। सक्र परिस्सिइयि (अप) (सण)।
 परिस्सियि (अप) देखो परिस्सियि (सण)।
 परिगतु देखो परिगम।
 परिगण सक [परि + गणय्] १ गणना करना। २ चिन्तन करना, विचार करना। क्वक्क-एत पत्ता मम गमएस्स त्ति परिगणत्तग निस्सणमिओ सया' (महा)।
 परिगणपण न [परिकल्पन] कल्पना (धम्मम ६८१)।
 परिगणपणा गी [परिकल्पना] ऊपर देखो (पत्त ३०५)।
 परिगणपिण वि [परिगणपित] जिनकी कल्पना की गई है (१ ११३, धम्मम ६६६)। देवा परिगणपिय।
 परिगम मत्त [परि + गम्] १ जाना,

गमन करना। २ चारो ओर से बेहूटन करना। ३ व्यास करना। सक्र. परिगतु (सण)।
 परिगमण न [परिगमन] १ गुण, पर्याय, 'परिगमण पज्जाओ अयोगकरणगुणोत्ति एगत्था' (सम्म १०६)। २ समन्ताद् गमन (निच्च ३)।
 परिगमिर वि [परिगन्तृ] जानेवाला (सण)।
 परिगय वि [परिगत] १ परिदेष्टित, 'मणु-स्सवग्गुरापरिगए' (उवा, गा ६६), 'बहुपरिगयपरिगया' (सम्मत्त २१७)। २ व्याप्त, 'विसपरिगयाहि दाढाहि' (उवा)।
 परिगर पु [परिकर] परिवार, 'सिसाण तु हरियव्व परिगरविहवकालमादीणि णाउ' (धम्मस ६२६)।
 परिगरिय वि [परिकरित] देखो परिअरिय (सुपा १२७)।
 परिगल अक [परि + गल] १ गल जाना, क्षीण होना। २ भरना, टपकना। परिगलइ (काल)। वक्क परिगला (पउम ११२, १५, तदु ४४)।
 परिगलिय वि [परिगलित] गला हुआ, परिक्षीण (कुप्र ७, महा, सुपा ८७, ३६२)।
 परिगलिर वि [परिगलितृ] गल जानेवाला, क्षीण होनेवाला (सण)।
 परिगह देखो परिगेण्ह। सक्र परिगहिअ (मा ४८)।
 परिगह देखो परिगह (कुमा)।
 परिगहिय देखो परिगहिय (वृह १)।
 परिगा सक [परि + गै] गान करना। क्वक्क परिगिज्जमाण (शाया १, १)।
 परिगालण न [परिगालन] गालन, छानन (पएह १, १)।
 परिगिज्जमाण देखो परिगा।
 परिगिज्जक } देखो परिगेण्ह।
 परिगिज्जिक्य }
 परिगिण्ह देखो परिगेण्ह। परिगिण्हइ (आन् १)। वक्क परिगिण्हत्त, परिगिण्हमाण (सुप्र २, १, ४४, ठा ७—पत्र ३८३)।
 परिगिण्ठा अक [परि + ग्लै] ग्लान होना। वक्क परिगिण्ठायाण (आचा)।

परिगुण सक [परि + गुणय्] परिगणन करना, गिनती करना। परिगुणह (अप) (पिग)।
 परिगुणण न [परिगुणन] स्वाध्याय (श्रीघ ६२)।
 परिगुव्व अक [परि + गुप्] १ व्याकुल होना। २ सक, सतत भ्रमण करना। वक्क परिगुव्वंत (राज)।
 परिगुव्व सक [परि + गु] शब्द करना। वक्क परिगुव्वत (राज)।
 परिगुव्व अक [परि + गुप्] १ व्याकुल होना। २ सक सतत भ्रमण करना। वक्क. परिगुव्वत (ठा १०—पत्र ५००)।
 परिगू सक [परि + गू] शब्द करना। क्वक्क परिगुव्वत (ठा १०—पत्र ५००)।
 परिगेण्ह सक [परि + अह्] ग्रहण परिगह } करना, स्वीकार करना (आमा)।
 परिगह } करण, स्वीकार करना (आमा)। वक्क. परिगहमाण (आचा १, न, ३, १)। सक्र. परिगिज्जिक्य, परिचेत्तूण (राज, पि ५८६)। हेक्क परिचेत्तु (पि ५७६)। क्व. परिगिज्जक, परिचेत्तव्व, परिचेत्तव्व (उत्त १, ४३, सुपा ३३, सुप्र २, १, ४८, पि ५७०)।
 परिगय देखो परिगय (वस ६, २, न)।
 परिगह पु [परिग्रह] १ ग्रहण, स्वीकार। २ धन आदि का संग्रह (पएह १, ५, औप)। ३ ममत्व, मूर्च्छा (ठा १)। ४ ममत्व पूर्वक जिसका संग्रह किया जाय वह (आचा, ठा ३, १, धर्म २)। 'वैरमण न [विरमण] परिग्रह से निवृत्ति (ठा १, पएह २, ५)। 'वत् वि [वत्] परिग्रह-युक्त (आचा, पि ३६६)।
 परिगहि वि [परिग्रहिन] परिग्रह-युक्त (सुप्र १, ६)।
 परिगहिय वि [परिगृहीत] स्वीकृत (उवा, औप)।
 परिगहिया ली [पारिग्रहिकी] परिग्रह-सम्बन्धी क्रिया (ठा २, १, नव १७)।
 परिघघर वि [परिघर्षर] वैठी हुई (आवाज), 'हरिणो जयइ चिर विहयसहपरिघघरा वाणी' (गउह)।

परिहिऊण, परिहित्ता (कुप्र ७२, सूत्र १, ४, १, २५) । क परिहियञ्च (स ३१५) ।
 परिहा जी [परिखा] जाई (उर ४, २, पात्र) ।
 परिहाइअ वि [दे] परिक्षीण (षड्) ।
 परिहाइवि देखो परिहाव = परि + धापय् ।
 परिहाण न [परिधान] १ वस्त्र, कपडा, (कुप्र ५६, सुपा ५५) । २ वि पहिरनेवाला, पहननेवाला, 'महिविलया सलिलवत्यपरिहाणी' (पञ्च ११, ११९) ।
 परिहाणि जी [परिहाणि] हास, नुकसान, क्षति (सम ६७, उप ३२६, जी ३३, प्रासू ३६) ।
 परिहाय वि [दे] क्षीण, दुर्बल (दे ६, २५, -पात्र) ।
 परिहायंत } देखो परिहा = परि + हा ।
 परिहायमाण }
 परिहार पु [परिहार] करण, कृति (वव १) ।
 परिहार पु [परिहार] १ परित्याग, वर्जन (गड्ड) । २ परिभोग, आसेवन, 'एवं सञ्चु गोसाला । बरास्सइकाइयाओ पउट्टपरिहार परिहरति' (भाग १५) । ३ परिहार विशुद्धि नामक समय-विशेष (कम्म ४, १२, २१) । ४ विषय (वव १) । ५ तप विशेष (ठा ५, २, वव १) । *विशुद्धिअ, *चिसुद्धीअ न [विशुद्धिक] चारित्र्य विशेष, समय-विशेष (ठा ५, २, नव २६) ।
 परिहारि वि [परिहारिन्] परिहार करनेवाला (बृह ४) ।
 परिहारिअ वि [परिहारिक] आचारवान् मुनि, उच्चक विहापी जैन साधु (आचा २, १, १, ४) ।
 परिहारिणी जी [दे] देर से ध्याई हुई भैंस (दे ६, ३१) ।
 परिहारिय वि [परिहारिक] १ परित्याग के योग्य (बृह २) । २ परिहार नामक तप का पालक (पव ६६) ।
 परिहाल पु [दे] जल-निर्गम, मोरी (दे ६, २६) ।
 परिहाव सफ [परि + धापय्] पेट्टिपाना । सङ्ग परिहाइवि (अप) (अवि) ।

परिहाव सक [परि + धापय्] हास करना, कम करना, हीन करना । वक्क परिहावेमाण (णामा १, १—पत्र २८) ।
 परिहाविअ वि [परिहापित] हीन किया हुआ (वव ४) ।
 परिहाविअ वि [परिधापित] पहिराया हुआ (महा, सुर १०, १७, स ५२६, कुप्र ६) ।
 परिहास पु [परिहास] उपहास, हँसी (गा ७७१, पात्र) ।
 परिहासणा जी [परिभाषणा] उपालम्भ (आव १) ।
 परिहि पुष्ठी [परिधि] १ परिवेष, 'ससिंविदं व परिहिणा रुद्ध सिन्नेण तस्स रायगिहं' (पव २५५) । २ परिखाह, विस्तार (राज) ।
 परिहिअ वि [परिहित] पहिरा हुआ (उवा, मग, कप्प, औप, पात्र, सुर २, ८०) ।
 परिहिऊण देखो परिहा = परि + धा ।
 परिहिंड सक [परि + हिण्ड्] परिभ्रमण करना । परिहिण्डय (ठा ४, १ टी—पत्र १६२) । वक्क परिहिंडल, परिहिंडमाण (पञ्च ८, १६८, ६०, ५, १५५, औप) ।
 परिहिण्डिय वि [परिहिण्डित] परिभ्रान्त, भटका हुआ (पञ्च ६, १३१) ।
 परिहिन्ता } देखो परिहा = + धा ।
 परिहियञ्च }
 परिहीअमाण देखो परिहा = परि + हा ।
 परिहीण वि [परिहीण] १ कम, न्यून (औप) । २ क्षीण, विनष्ट (सुञ्ज १) । ३ रहित, वर्जित (उव) । ४ न हास, अपचय (राय) ।
 परिहुत्त वि [परिभुक्त] जिसका भोग किया गया हो वह (से १, ६४, दे ४, ३६) ।
 परिहुअ वि [परिभूत] पराजित, अभिभूत (गा १३४, पञ्च ३, ६, से २८) ।
 परिहेरग न [दे परिहार्यक] आभूषण-विशेष (औप) ।
 परिहो सक [परि + भू] पराभव करना । परिहोइ (अवि) ।
 परिहोअ देखो परिभोग (गड्ड) ।
 परिहल्लस (अप) अक [परि + हल्लस्] कम होना । परिहल्लइ (पिंग) ।
 परी सक [परि + इ] जाना, गमन करना । परिति (पि ४६३) । वक्क परितं (पि ४६३) ।

परी सक [क्षिप्] फेंकना । परीइ (हे ४, १४३) । परीसि (कुमा) ।
 परी सक [भूम्] भ्रमण करना, घूमना । परीइ (हे ४, १६१) । परीति (पएह १, ३—पत्र ४६) ।
 परीघाय पु [परिघाल] निर्घात, विनाश (पव ६४) ।
 परीणम देखो परिणम = परि + णम, 'सस-गमो परएवणाधुणाओ सोयुतरत्तेण परीणमति' (उपप ३५) ।
 परीभोग देखो परिभोग (सुपा ४६७, आवक २८४, पचा ८, ६) ।
 परीमाण देखो परिमाण (जीवस १२३, १३२-पव १५६) ।
 परीय देखो परित्त (राज) ।
 परीयल्ल पु [दे, परिवर्त] वेष्टन, 'तिपरी यल्लमणस्सट्ठ रयहरण वारए एगं' (ओप ७०६) ।
 परीरभ पु [परिरम्भ] आलिगन (कुमा) ।
 परीरज्ज वि [परिधर्ज्य] वर्जनीय (कम्म ६, ६ टी) ।
 परीवाय देखो परिवाय = परिवाद (पञ्च १०१, ३, पव २३७) ।
 परीवार देखो परिवार = परिवार (कुमा, चैघ्य ४८) ।
 परीसण न [परिवेषण] परोसना (दे ३, १४) ।
 परीसम देखो परिस्सम (अवि) ।
 परीसह पु [परीषह] भूत घादि से होनेवाली पीडा (आचा, औप, उव) ।
 परुइय वि [परुदित] जो रोने लगा हो वह (स ७५५) ।
 परुक्ख देखो परोक्ख (विसे १४०३ टी, सुपा १३३, था १, कुप्र २५) ।
 परुण्ण } देखो परुइय (से १, ३५, १०, परुन् ६४, गा ३५४, ८३८, महा स २०४) ।
 परुप्पर देखो परोप्पर (कुप्र ५) ।
 परुम्भासिद (शौ) वि [प्रेद्भासित] प्रकाशित (प्रयौ २०) ।
 परुस वि [परुप] कठोर (गा ३४४) ।
 परुट्ट वि [परुट्ट] १ उल्लन (पर्ये १२१) । २ बढ़ा हुआ (औप, पि ४०२) ।

परिच्छेदा वि [परिच्छेदक] निश्चय करने-
वाला (उप ८५३ टी) ।

परिच्छेज्ज वि [परिच्छेद्य] वह वस्तु जिसका
क्रय-विक्रय परिच्छेद पर निर्भर रहता है—
रत्न, वस्त्र आदि द्रव्य (आ १८) ।

परिच्छेद देखो परिच्छेद = परिच्छेद (धर्मस
१२३१) ।

परिच्छेदग देखो परिच्छेदग (धर्मस ५०) ।

परिच्छेद्य वि [परिस्तोक] थोडा, अल्प
(श्रौप) ।

परिच्छेज्ज देखो परिच्छेज्ज (आ १८) ।

परिजल्पि वि [परिजल्पित] उक्त, कथित
(सुपा ३६४) ।

परिजजर वि [परिजर्जर] अतिजीर्ण (उप
२६४ टी, ६८६ टी) ।

परिजडिल वि [परिजटिल] अतिशय जटिल
(गडड) ।

परिजण देखो परिणण (उवा) ।

परिजत्र सक [परि + विच्] घृषक करना,
श्रमग करना । सक परिजत्रिय (सूअ २,
२, ८०) ।

परिजत्र सक [परि + जप्] १ जाप करना ।
२ बहुत बोलना, बकवाद करना । सक. 'स
भिन्नु वा भिन्नुणी वा गामाणुगाम दूइज्ज-
माणे सो पाहिं सद्धि परिजत्रिया २ गामा-
णुगाम दूइज्जेजा' (आचा २, ३, २, ८) ।

परिजत्रण न [परिजपन] जाप, जपन, मन्त्र
आदिना पुन पुन उच्चारण (विसे ११४०,
सुर १२, २०१) ।

परिजाहय वि [परियाचित] मांगा हुआ
(धर्मस १०५५) ।

परिजाण सक [परि + ज्ञा] अज्ञो तरह
जानना । परिजाणद (उवा) । वट परिजा-
णमाण (टुमा) । वण परिजाणिज्जमाण
(रागा १, १, गुमा) । सक परिजाणिया
(मूप १, १, १, १, १, ६, ६, १, ६,
१०) । ट परिजाणिवय (आचा, पि
५७०) ।

परिजअ वि [परिजित] सर्वथा जीत, जित-
पर दूरा दग्न किया गया हो यह (विसे
८४१) ।

परिजुण वि [परिजीर्ण] १ फटा-टूटा,
अत्यन्त जीर्ण (आचा) । २ दुबल (उत्त २,
१२) । ३ दरिद्र, निर्धन, 'परिजुणो उ
वरिदो' (वव ४) ।

परिजुणा देखो परिजुना (ठा १०—पत्र
४७४ टी) ।

परिजुत्त वि [परियुक्त] सहित (सवोष १) ।

परिजुन्न देखो परिजुण (उप २६४ टी) ।

परिजुन्ना स्त्री [परिजीर्णा, परिधूना] प्रत्रण्या,
विशेष, दरिद्रता के कारण ली हुई दीक्षा
(ठा १०—पत्र ४७३) ।

परिजुसिय देखो परिमुसिय (ठा ४, १—
पत्र १८७, श्रौप) ।

परिजुसिय न [पर्युषित] रात्रि-परिवसन,
रात का बासी रहना, बासी (ठा ४, २—पत्र
२१६) । देखो परिउसिय ।

परिजूर अक [परि + जू] सर्वथा जीर्ण होना,
'परिजूरइ ते सरीरय' (उत्त १०, २६) ।

परिजूरिय वि [परिजीर्ण] अतिजीर्ण (अणु) ।

परिज्जय पु [दे] कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज्ज
२०) ।

परिज्जुन्न देखो परिजूरिय (दस ६, २, ८) ।

परिज्जामिय वि [परिध्यामित] श्याम
(काला) किया हुआ (निच् १) ।

परिज्जुसिय वि [परिजुष्] १ सेवित ।
परिज्जुसिय } २ श्रित, 'परिज्जुसियकामभो-
परिज्जुसिय' गसपओगसपउत्ते' (भग २५,
७—पत्र ६२३, ६२५ टी) । ३ परोक्षण,
ठा ४, १—पत्र १८८ टी, पि २०६) ।

परिज्जुव सक [परि + स्थापय] १ परि-
त्याग करना । २ सस्थापन करना । परिज्जुवेद,
परिज्जुवेजा (आचा २, १, ६, ५, उवा) ।

सक परिज्जुवेऊण, परिज्जुवेत्ता (वृह ४,
कस) । हेक परिज्जुवेत्ताए (कस) । वक
परिज्जुवत (निच् २) । क. परिज्जुप्प,
परिज्जुवेयव्व (उत्त १४, ६, कस) ।

परिज्जुवण न [प्रतिष्ठापन] प्रतिष्ठा कराना
(वेइय ७७६) ।

परिज्जुवण न [परिष्ठापन] परित्याग (उव,
पव १५२) ।

परिज्जुवणा स्त्री [परिष्ठापना] ऊपर देखो,
'अविहिपरिज्जुवणाए काउस्सगो य पुत्तमी-
वम्मि' (वृह ४) ।

परिज्जुवणा स्त्री [प्रतिष्ठापना] प्रतिष्ठा कराना,
वेयावच्चं जिणगिहरक्खणपरिज्जुवणाइजिण-
किच्च' (वेइय ७७६) ।

परिज्जुविय स्त्री [प्रतिष्ठापित] सस्थापित
(भवि) ।

परिज्जु देखो पइट्टा (हिं १, ३८) ।

परिज्जुइ वि [परिष्ठापित्] परित्यागी (नाट—
साहि १६२) ।

परिज्जुण न [परिस्थान] परित्याग (नाट) ।

परिज्जुव देखो परिज्जुव हेक परिज्जुवित्तए
(कप्प, पि ५७८) ।

परिज्जुवअ वि [परिस्थापक] परित्याग
करनेवाला (नाट) ।

परिज्जुअ वि [परिस्थित] सपूर्ण रूप से
स्थित (पव ६६) ।

परिज्जुअ देखो पइट्टिय (हिं १, ३८, २,
२११, वड्, महा, सुर ३, १३) ।

परिठव देखो परिठव । परिठवहु (अणु)
(पिंग) ।

परिठवण देखो परिठवण = परिष्ठापन (पव—
गाथा २४) ।

परिण देखो परिणी, 'परिणइ बहुयाउ खयर-
कन्नाओ' (धर्मवि ८२) । वक. परिणंत
(भवि) । सक परिणऊण (महा, कुप्र ७६,
१२७) ।

परिणइ स्त्री [परिणति] परिणाम, (गा ५६८,
धर्मस ६२३) ।

परिणत देखो परिण ।

परिणंतु वि [परिणन्तु] परिणाम को प्राप्त
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३४) ।

परिणद सक [परि + नन्द] वर्णन करना,
श्लाघा करना, 'ताए परिणंदिता (? ति)
(तदु ४०) ।

परिणद्ध वि [परिणद्ध] १ परिणत, वेष्टित,
'उदुरमालापरिणद्धसुक्याचिवे' (उवा, शाया
१, ८—पत्र १३३) । २ न वेष्टन (शाया
१, ८) ।

परिणम सक [परि + गम्] १ प्राप्त करना ।
२ अक रूपान्तर को प्राप्त होना । ३ पूर्ण
होना, पूरा होना, 'किण्हनेसं तु परिणमे'
(उत्त ३४, २२), 'परिणमइ अण्यमाओ'
(स ६८४, भग १२, ५) । वक. परिणमंत,

पलाविअ } वि [प्रलापित] ? अनर्थक कहा
पलावित } हुआ । २ न. अनर्थक भाषण (चंड,
परह १, २) ।

पलाविर वि [प्रलापितृ] वकवादी (दे ७,
५६) ।

पलास न [दे] ? कार्पास-फल । २ स्वेद,
पसीना (दे ६, ७०) ।

पलास (अप) न [पलाश] पत्र, पत्ती (भवि) ।

पलमु स्त्री [दे] सेवा, पूजा, भक्ति (दे
६, ३) ।

पलाहि पुत्री [दे] कपाम (दे ६, ४, पात्र,
वज्जा १२६, हे २, १७४) ।

पलाहिअ वि [दे] ? विषम, असम । २ पुन
आवृत जमीन का वास्तु (दे ६, १५) ।

पलाहिअ वि [दे उपलहृदय] मूर्ख,
पाषाण-हृदय (षड्) ।

पलाहुअ वि [प्रलधुक्रु] ? स्वल्प, थोडा । २
छोटा (से ११, ३३, गडड) ।

पलाह् देवो पराय = परा + अय्, 'जं ज
पलाह्, महम अयलि वहि पलाह् त कुचक'
(आभाण २३), पलाह्, पलाह् (पि
५६७) ।

पलाअत } देखो पलाय = परा + अय् ।
पलाइअ }

पलाइअ } वि [पलायित] ? भागा हुआ,
पलाण } नष्ट, 'पलाइए हलिए' (गा ३६०),
'रिउओ सिन् जह पलाए' (धर्मवि ५६,
५१, पउम ५३, ८४, शोध ४६७, उप १३६
टी, सुपा २२, ५०३, ती १५, सण, महा) ।
२ न पलायन (दस ४, ३) ।

पलाण न [पलायन] भागना (सुपा ४६४) ।

पलाणिअ वि [पलायनित] जिसने पलायन
किया हो वह, भागा हुआ, 'तेणवि आगण्छतो
विन्नाओ तो पलाणिओ इर' (सुपा ४६४) ।

पलात वि [प्रलात] गृहीत (चंड) ।

पलाय अक [परा + अय्] भाग जाना,
नासना । पलायइ, पलाअसि (महा, पि
५६७) । भवि पलाइस्त् (पि ५६७) । वक्
पलाअंत, पलायमाण (गा २६१, राया
१८, आक १८, उप पृ २६) । सक् पलाइअ
(नाट, पि ५६७) । हेक् पलाइअ (आक
१६, सुपा ४६४) । क् पलाइअव्य (पि
५६७) ।

पलाय पु [दे] चोर, तस्कर (दे ६, ८) ।

पलाय देखो पलाइअ = पलायित (राया १,
३, स १३१, उप पृ २५७, धण ४८) ।

पलायण न [पलायन] भागना (शोध २६,
सुर २, १४) ।

पलायणया स्त्री ऊपर देखो (चिइय ४४६) ।

पलायमाण देखो पलाय = परा + अय् ।

पलाल वि [प्रलाल] प्रकृत लालावाना (अणु
१४१) ।

पलाल न [पलाल] तुण-विशेष, पुआल (परह
२, ३, पात्र, आचा) । पीढय न [पीठक]
पलाल का आसन (निचू १२) ।

पलाला वि [पलालक] पलाल—पुआल का
बना हुआ (आचा २, २, ३, १४) ।

पलाव सक [नाशय्] भगाना, नष्ट करना ।
पलावइ (हे ४, ३१) ।

पलाव कुं [प्लाव] पानी की बाढ (तटु ५०
टी) ।

पलान् पु [प्रलान्] अनर्थक भाषण, वकवादी
(महा) ।

पलावण न [नाशन] नष्ट करना, भगाना
(कुमा) ।

पलावि वि [प्रलापिन्] वकवादी, 'असबद्ध-
पलाविशी एस' (कुम २२२, सबोध ४७,
अभि ४६) ।

पलाविअ वि [प्लावित] डुवाया हुआ,
भिगाया हुआ (सुर १३, २०४, कुम ६०,
६७, सण) ।

पलाविअ वि [प्रलापित] अनर्थक घोषित
करवाया हुआ, 'मछुडु कि दुच्चरिउ पलाविउ
सज्जणजएहो नाउ लज्जाविउ' (भवि) ।

पलाविर वि [प्रलापितृ] वकवादी करनेवाला,
'अहह असंबद्धपलाविरस्स वडुयस्स पेच्छ मह
पुरओ' (सुपा २०१), 'दिउवनाणीय जपेइ,
एसो एव पलाविरौ' (सुपा २७७) ।

पलास पु [पलाश] ? वृक्ष-विशेष, किशुक
का वृक्ष, ढाक (वज्जा १५२, गा ३११) । २
राक्षस (वज्जा १३०, गा ३११) । ३ पुन
पत्र, पत्ता (पात्र, वज्जा १५२) । ४ भद्रशाल
वन का एक दिग्हस्ती कूट (ठा ८—पत्र ४३६,
इक) ।

पलासि स्त्री [दे] भल्ली, छोटा माला, शत्रु-
विशेष (दे ६, १४) ।

पलासिया स्त्री [दे पलाशिका] स्वकाष्ठिका,
छाल की बनी हुई लकड़ी (सूम १, ४,
२, ७) ।

पलाह देखो पलास (सभि १६, पि २६२) ।
पलि देखो परि (सूम १, ६, ११, २, ७,
३६, उत २६, ३४, पि २५७) ।

पलिअ न [पलित] ? वृद्ध अवस्था के कारण
वालो का पकना, केशों की श्वेता । २ बदन
की झुर्रियाँ (हे १, २१२) । ३ कर्म कम
पुद्गल, 'जे केइ सत्ता पलिय चयति' (आचा
१, ४, ३, १) । ४ वृष्टित अनुष्ठान, 'सि
आकुट्टे वा हए वा लु विए वा पलिय पकंथे'
(आचा १, ६, २, २) । ५ कर्म, काम
(आचा १, ६, २, २) । ६ ताप । ७ पक,
कादा । ८ वि. शिथिल । ९ वृद्ध, वृद्ध (हे
१, २६२) । १० पका हुआ, पक्व (घा २,
निचू १२) । ११ बरा-प्रस्त, 'न हि विज्ज'
भाहरण पलियतावकरएह'अस्त' (राज) ।
'डुण, ठाण न [स्थान] कर्म-स्थान,
कारखाना (आचा १, ६, २, २) ।

पलिअ न [पल] चार कर्प या तीन सौ बीस
गुज्जा की नाप (तटु २६) ।

पलिअ देखो पल्ल = पल्य (पव १५८, भग,
जी २६, नव ६, द २७) ।

पलिअ (अप) देखो पडिअ (पिग) ।

पलिअक पु [पर्यङ्क] परलग, खाट (हे २,
६८, सम ३५, औप) । 'आसण न
[आसन] आसन-विशेष (सुपा ६५५) ।

पलिअका स्त्री [पर्यङ्का] पदासन, आसन-
विशेष (ठा ५, १—पत्र ३००) ।

पलिउच सक [परि + कुञ्ज्] ? अपलाप
करना । २ ठगना । ३ छिपाना, गोपन
करना । पलिउचति, पलिउचयति (उत २७,
१३, सूम १, १३, ४) । सक् पलिउचिय
(आचा २, १, ११, १) । वक् पलिउचमाण
(आचा १, ७, ४, १, २, ५, २, १) ।
पलिउचणा न [परिकुञ्चन] माया, बपट
(सूम १, ६, ११) ।

पलिउचणा स्त्री [परिकुञ्चना] ? सन्धी
वात को छिपाना । २ माया (ठा ४, १

१, १) । ४ ज्ञान-पूर्वक प्रत्याख्यान (ठा ५, २) ।

परिष्ठाण वि [परिज्ञान] ज्ञान, जानकारी (धर्मसं १२५३, उप पृ २७४) ।

परिष्ठाणाय देखो परिष्ठाण = परि + ज्ञा ।

परिष्ठाणाय वि [परिज्ञात] विदित, जाना हुआ (सम १६, आवा) ।

परिष्ठाण वि [परिज्ञित्] परिज्ञा युक्त, 'गीय-जुमो उ परिष्ठाणो तह जिणइ परोसहाणीय' (वव १) ।

परितत पि [परितान्त] सर्वथा खिन्न, निर्विण्य (आया १, ४—पत्र ६७, विपा १, १, उप) ।

परितत्रि वि [परिताम्र] विशेष ताम्र—अरण्य बर्णवाला (गड्ड) ।

परितज्ज सक [परि + तर्जय्] तिरस्कार करना । वक्क परितज्जयन (पउम ४८, १०) ।

परितद्धुवि वि [परितत] छत्र फैलाया हुआ (मण) ।

परितणु वि [परितनु] अत्यन्त पतला (सुपा ५८) ।

परितण्ण अक [परि + तण्] १ सतण होना, गरम होना । २ परश्चात्ताप करना । ३ दुःखी होना । परितण्ण (महा, उप), परितण्णति (मूप् २, २, ५५), 'ता लोहमारवाहनरुच्च परितणो पच्छ' (धर्मवि ६) । सक परितण्णिपऊग (महा) ।

परिनप्प मक [परि + तापय्] परिताप उपनाम । परिनप्पति (मूप् २, २, ५५) ।

परितप्पण न [परितपन] परितपन होना (मूप् २, २, ५५) ।

परिनप्पण न [परितापन] परिताप उपनाम (मूप् २, २, ५५) ।

परिनल्लिअ वि [परितलित] तला हुआ (पोप ८८) ।

परिनत्त वि [परितत्त] परिताप युक्त (गण) ।

परिताग न [परिआग] १ राण । २ पाउगांर वान (मूप् १, १, २, ६) ।

परिताप देतो परिनप्प = परि + तापय् । ५ परिनावेण्य (वि ५७०) ।

परिताव पु [परिताव] १ सताप, दाह । २ परश्चात्ताप । ३ दुःख, पीडा (महा, श्रौप) । °यर वि [°कर] दु खोत्पादक (पउम ११०, ६) ।

परितावण देखो परितप्पण = परितापन (श्रौप) ।

परिताविअ वि [परितापित] १ सतापित (श्रौप) । २ तला हुआ (श्रौप १४०) ।

परितास पुं [परिआस] अकस्मात् होनेवाला भय (आया १, १—पत्र ३३) ।

परितुट्टि वि [परितुट्टि] झुंझनेवाला (सण) ।

परितुट्ट वि [परितुट्ट] तोष-प्राप्त, सतुट्ट (उव, चेइय ७०१) ।

परितुल्लि वि [परितुल्लि] तौला हुआ (सण) ।

परितेज्जि देखो परित्तज ।

परितोल सक [परि + तोलय्] उठाना । वक्क 'जुगव परितोलता खग्ग समरणम्मि तो वेवि' (सुपा ५७२) ।

परितोस सक [परि + तोपय्] सतुट्ट करना । भवि परितोसइस्सं (कपूर ३२) ।

परितोस पु [परितोप] आनन्द, खुशी (नाट—मालवि २३) ।

परितोसिय वि [परितोपित] सतुट्ट किया हुआ (मण) ।

परित्त वि [परीत] १ व्याप्त (सिदि १८३) । २ प्रअट्ट (सूप् २, ६, १८) । ३ सख्येय, जिमकी गिनती हो सके ऐसा (सम १०६) ।

४ परिमित, नियत परिमाणवाला (उप ४१७) । ५ लघु, छोटा । ६ सुच्छ हलका (उप २७०, ६६५) । ७ एक से लेकर असंख्येय जीवों का आश्रय, एक से लेकर असंख्येय जीववाला (श्रौघ ४१) । ८ एक जीववाला (पण १) । °करण न [°करण] लघुकरण (उप २७०) । °जीव पु [°जीव] एक शरीर में एकाकी रहनेवाला जीव (पण १) । °णत न [°णन्त] सख्या-विशेष (कम्म ४, ७१, ८३) । °ससारिअ वि [°ससारिअ] परिमित ससारवाला (उप ४१७) । °सस्ख न [°संस्थात] सख्या-विशेष (कम्म ८, ७१, ७८) ।

परित्तज देखो परिस्वय । संक. परित्तजिअ (स्वन्न ५१), परितेज्जि (अप) । (पिप) । परित्ता } सक [परि + त्रै] रक्षण करना । परित्ताअ } परित्ताइ, परित्ताअमु, परित्ताहि, परित्तायह (प्राक्क ७०, पि ४७६, हे ४, २६८) ।

परित्ताइ वि [परित्तायिन्] रक्षण-कर्ता (सुपा ४०५) ।

परित्ताण न [परित्ताण] रक्षण (से १४, ३५, सुपा ७१, आत्मानु ८, सण) ।

परित्ताणतय पुन [परीतानन्तक] सख्या-विशेष (अणु २३४) ।

परित्तास देखो परितास (कप) ।

परित्तासखेज्जय पुन [परीतासंख्येयक] सख्या-विशेष (अणु २३४) ।

परित्तीकय वि [परीतीकृत] सक्षिप्त किया हुआ, लघुकृत (आया १, १—पत्र ६६) ।

परित्तीकर सक [परीती + कृ] लघु करना, छोटा करना । परित्तीकरेति (भग) ।

परित्थोम न [परिस्तोम] १ मस्तक । २ वि. वरू 'चित्परित्थोमपच्छद' (श्रौप) ।

परिथंभिअ वि [परिस्तम्भित] स्तम्भ किया हुआ (सुपा ४७५) ।

परिथु सक [परि + स्तु] स्तुति करना । कवक्क परिथुव्वत (सुपा ६०७) ।

परिथूर } वि [परिस्थूर] विशेष स्थूल, परिथूल } खूब मोटा (धर्मसं ८३८, चेइय ८५४, आ ११) ।

परिदा सक [परि + दा] देना । कर्म परिद्विज्जसु (अप), (पिप) ।

परिदाह पुं [परिदाह] संताप (उत्त २, ८, भग) ।

परिदिण वि [परित्त] दिया हुआ (अभि १२५) ।

परिदिह वि [परिदिग्घ] उपलिप्त (सुख २, ३७) ।

परिदिन्न देखो परिदिण (सुपा २२) ।

परिदेव अक [परि + देव] विलाप करना । परिदेवय (उत्त २, १३) । वक्क, परिदेवत (पउम २६, ६२, ४५, ३६) ।

परिदेवण न [परिदेवन] विलाप, 'तस्स कदणुसोमणपरिदेवणताडणाई लिंगाह' (सबोध ४६, सबे ८) ।

पलीव पु [प्रदीप] दीपक, दीप्रा (प्राक् १२, पइ) ।
 पलीवग वि [प्रदीपक] आग लगानेवाला (पएह १, १) ।
 पलीवण न [प्रदीपन] आग लगाना (आ २८, कुप्र २६) ।
 पलीवणया स्त्री. ऊपर देखो (निचू १६) ।
 पलीविअ देखो पलीव = प्र + दीपय् ।
 पलीविअ वि [प्रदीप] प्रज्वलित (पात्र) ।
 पलीविअ वि [प्रदीपित] जलाया हुआ (उव) ।
 पलुपण न [प्रलोपन] प्रलोप (श्रौप) ।
 पलुट्ट वि [प्रतुठित] लेटा हुआ (दे १, ११६) ।
 पलुट्ट देखो पलोट्ट = पर्यस्त (हे ४, ४२२) ।
 पलुट्टिअ देखो पलोट्टिअ = पर्यस्त (कुमा ४, ७५) ।
 पलुट्ट वि [प्लुट्ट] दग्ध, जला हुआ (सुर ६, २०६, सुपा ४) ।
 पलेमाण देखो पली = प्र + ली ।
 पलेव पु [प्रलेप] एक जाति का पत्थर, पाषाण-विशेष (जी ३) ।
 पलोअ सक [प्र + लोक्, लोकाय्] देखना, निरीक्षण करना । पलोअइ, पलोअए, पलोअइ (सण, महा) । कर्म-पलोअइअ (कय) । वृद्ध. पलोअइअ, पलोअअंत, पलोअंत, पलोअमाण, पलोअमाण (रयण १४, नाट—मालती ३२, महा. पि २६३, सुपा ४४, ३५१) ।
 पलोअण न [प्रलोकन] अवलोकन (से १४, ३५, गा ३२२) ।
 पलोअणा स्त्री [प्रलोकना] निरीक्षण (श्रौप ३) ।
 पलोइ वि [प्रलोकिन्] प्रेक्षक (श्रौप) ।
 पलोइअ वि [प्रलोकित] देखा हुआ (गा ११८, महा) ।
 पलोइर वि [प्रलोकिवृ] प्रेक्षक (गा १८०, भवि) ।
 पलोअण } देखो पलोअ ।
 पलोअमाण }
 पलोअर [दे] देखो परोहड (गा ३१३ अ) ।

पलोट्ट सक [प्रत्या + गम्] लौटना, वापस आना । पलोट्टइ (हे ४, १६६) ।
 पलोट्ट सक [परि + अस्] १ फेंकना । २ मार गिराना । ३ अक पलटना, विपरीत होना । ४ प्रवृत्ति करना । ५ गिरना । पलोट्टइ, पलोट्टइ (हे ४, २००, भग. कुमा) । वृद्ध. पलोट्टत (वजा ६६, गा २२२) ।
 पलोट्ट अक [प्र + लुट्] जमीन पर लोटना । वृद्ध पलोट्टत (से ५, ५८) ।
 पलोट्ट वि [पर्यस्त] १ क्षिप्त, फेंका हुआ । २ हत । ३ विक्षिप्त (हे ४, २५८) । ४ पतित, गिरा हुआ (गा १७०) । ५ प्रवृत्त, 'रेलता वणभागा तत्रो पलोट्टा जवा जला-णोघा' (कुमा) ।
 पलोट्टजीह वि [दे] रहस्य-भेदी, बात को प्रकट करनेवाला (दे ५, ३५) ।
 पलोट्टण न [प्रलोठन] दुलकाना, लुडकाना, गिराना (उप ५ ११०) ।
 पलोट्टिअ देखो पलोट्ट = पर्यस्त (कुमा) ।
 पलोभ सक [प्र + लोभय्] लुभाना, लालच देना । पलोभेदि (शौ) (नाट—मृच्छ ३१३) ।
 पलोभविअ वि [प्रलोभित] लुभाया हुआ (धर्मवि ११२) ।
 प्रलोभि वि [प्रलोभिन्] विशेष लोभी (धर्मवि ७) ।
 पलोभिअ देखो पलोभविअ (सुपा ३४३) ।
 पलोव (अप) देखो पलोअ । पलोवइ (भवि) ।
 पलोहर [दे] देखो परोहड (गा ६८५ अ) ।
 पलोहिद (शौ) देखो पलोभिअ (नाट) ।
 पल पुन [पत्य] १ गोल आकार का एक धान्य रखने का पात्र (पव १५८, ठा ३, १) । २ काल-परिमाण विशेष, पत्थोपम (पउम २०, ६७, द २७) । ३ संस्थान-विशेष, पत्यक संस्थान, 'पल्लासठाणसठिया' (सम ७७) ।
 पल पु [पल] धान्य भरने का बड़ा कोठा, 'बहवे पल्ला सालीण पडिपुएणा चिट्ठि' (णया १, ७—पत्र ११५) ।
 पलक देखो पलिअक (हे २, ६८, पइ) ।
 पलक पु [पत्यइ] शाक-विशेष, कन्द विशेष (आ २०, जी ६, पव ४, सत्रोव ४४) ।

पल्लवण न [प्रलङ्घन] १ अतिक्रमण (ठा ७) । २ गमन, गति (उत्त २४, ४) ।
 पल्लव देखो पल्ल = पल्ल (विसे ७०६) ।
 पल्लट्ट देखो पल्लट्ट = परि + अस् । पल्लट्टइ (हे ४, २००, भवि) । सक पल्लट्टिउ (पचा १३, १२) ।
 पल्लट्ट पुं [दे] पर्वत-विशेष (पएह १, ४) ।
 पल्लट्ट पु [दे परिवर्त] काल-विशेष, अनन्त काल चक्रों का समय (वण ४७) ।
 पल्लट्ट } देखो पलोट्ट = पर्यस्त (हे २, ४७, पल्लट्टय ६८) ।
 पल्लट्टि स्त्री [पर्यस्ति] आसन-विशेष, पलयोः 'पायपसारण पल्लट्टिवधय विवपट्टिदाय च । उच्चासणसेवणया जिणपुरमो भनइ अवनता ॥' (चिइय ६०) । देखो पल्लट्टिया ।
 पल्लल न [पल्लल] छोटा तलाव (प्राक् १७, णया १, १, सुपा ६४६, स ४२०) ।
 पल्लव पु [पल्लव] १ किसलय, अकुर (पात्र, श्रौप) । २ पत्र, पत्ता (से २६) । ३ अ-विशेष (भवि) । ४ विस्तार (क) ।
 पल्लव देखो पल्लव (सम ११३) ।
 पल्लवाय न [दे] क्षेत्र-क्षेत्र (दि २, २२) ।
 पल्लविअ वि [दे] लाक्षा-रक्त (दे ६, १६, पात्र) ।
 पल्लविअ वि [पल्लवित] १ पल्लवाकार (दे ६, १६) । २ अकुरित, प्राडुभूत, उत्पन्न (दे १, १) । ३ पल्लव-युक्त (रंभा) ।
 पल्लविल वि [पल्लववत्] पल्लव-युक्त (सुपा ५, वण २४) ।
 पल्लविल देखो पल्लव (हे २, १६४) ।
 पल्लस्स देखो पलोट्ट = परि + अस् । पल्लस्सइ (प्राक् ७२) ।
 पल्लण न [पर्याण] अथ आदि का सञ्ज, 'कि करिणो पल्लाण उच्चोडु रासमो तरइ' (प्रवि १७, प्राप्र) ।
 पल्लण सक [पर्याणय्] अथ आदि को सजाना । पल्लाणेह (स २२) ।
 पल्लाणिअ वि [पर्याणित] पर्याण-युक्त (कुमा) ।
 पह्लि स्त्री [पह्लि] १ छोटा गंभ । २ चोरा के निवास का गहन स्थान (उप ७२८ टी) ।

परिपूय वि [परिपूत] छाणा हुआ (कण्, लटु ३२)।

परिपूर सक [परि + पूर्य] पूर्ण करना, भरपूर करना। वक्तु परिपूरत (पि ५३७)। मक्तु परिपूरिअ (नाट—मालवि १५)।

परिपूरिय वि [परिपूरित] भरपूर, व्याप्त (सुर २, ११)।

परिपेन्ञ्ज सक [परिप्र + ईक्ष] देखना। वक्तु परिपेच्छत (अञ्चु ६३)।

परिपेरत पु [परिपर्यन्त] प्रान्त भाग (शाया १, ४, १३, सुर १५, २०२)।

परिपेरिय वि [परिप्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई हो वह (सुपा १८६)।

परिपेलय वि [परिपेल्य] १ सुकर, सहज, सहल, आमान (मे ३, १३)। २ श्रद्ध। ३ नि सार। ४ बराक, दीन (राज)।

परिपेष्टिअ देखो परिपेरिय (गा ५७७)।

परिपेस सक [परिप्र + डप्] भोजना। परिपेमइ (भवि)।

परिपेसण न [परिप्रेषण] भोजना (भवि)।

परिपेसल वि [परिपेशल] सुन्दर, मनोहर (गुपा १०६)।

परिपेसिय वि [परिपेपिन] भेजा हुआ (भवि)।

परिपोस सक [परि + पोप्य] पुष्ट करना। कण्ट परिपोसिज्जत (राज)।

परिप्यमाण न [परिप्रमाण] परिमाण (भवि)।

परिप्यस सक [परि + प्लु] तैरना, गीता लगाना। वक्तु परिप्यवत (ते २, २८, १०, १३, पाथ)।

परिप्युय वि [परिप्लुत] आप्लुत, व्याप्त (राज)।

परिप्युया स्त्री [परिप्लुता] दीन-विरोध (राज)।

परिप्युय पु [परिस्पन्द] १ रचना विशेष, 'स्य दायपरिस्पन्दे' (गडड)। २ समन्तात् पन्न (गा ४४)। ३ चेष्टा, प्रयत्न, 'योया र्नेरि निरिन्नि प्रायमणे व् यण्डणमुत्ति। म-परिस्पन्ने। यिय एग्गमा भमिदात्मयन व' (गडड)।

परिप्युट वि [परिप्युट] घटयन्त लटु (मे ११, १०, सुर ४, २१४, भवि)।

परिप्युड पु [परिस्फोट] १ प्रस्फोटन, भेदन।

२ वि. फोडनेवाला, विभेदक, 'तमपडल-परिप्युडं वेव तेअसा पज्जलतख्व' (कण्)।

परिप्युर अक [परि + स्फुर] चलना। परिप्युरि (शौ) (नाट—उत्तर २८)।

परिप्युरण न [परिस्फुरण] हिलन, चलन (सण)।

परिप्युरिअ वि [परिस्फुरित] स्फूर्ति-युक्त, 'वयणु परिप्युरिअ' (भवि)।

परिफंस पु [परिस्पर्श] स्पर्श, छूना (पि ७४, ३११)।

परिफसण न [परिस्पर्शन] ऊपर देखो (उप ६८६ टी)।

परिफग्गु वि [परिफल्लु] निस्सार, असार (धर्मस ६५३)।

परिफासिय वि [परिस्पृष्ट] व्याप्त (दस ५, १, ७२)।

परिफुड देखो परिप्युड = परिस्फुट (पउम ३, ८, प्रासू ११६)।

परिफुडिय वि [परिस्फुटित] फूटा हुआ, भग्न (पउम ६८, १०)।

परिफुर देखो परिप्युर। परिफुरइ (सण)। वक्तु परिफुरत (सण)।

परिफुरिअ देखो परिप्युरिय (सण)।

परिफुल्लिअ वि [परिफुल्लित] फूला हुआ, कुसुमित (पिंग)।

परिफुस सक [परि + स्पृश] स्पर्श करना, छूना। वक्तु परिफुसंत (धर्मवि १२६, १३६)।

परिफुसिय वि [परिप्रोच्छिन्न] फोछा हुआ (उप ५ ६४)।

परिफोसिय वि [परिस्पृष्ट] छूना हुआ, 'उदगपरिफोसियाए दन्धोवरिपञ्चच्छुयाए भिनियाए णिसीयति' (शाया १, १६, उप ६४८ टी)।

परिवृहण न [परिवृहण] वृद्धि, उपचय (सुप्र २, २, ६)।

परिवभत वि [दि] १ निपिद्ध, निवारित। २ नोह, दरपीक (दे ६, ७२)।

परिवभसिअ (शौ) नीचे देखो (मा ५०)।

परिवभट्ट वि [परिभट्ट] पतित, स्वलित (शाया १, १३, सुपा ५०६, अमि १४४)।

परिवभम सक [परि + भ्रम्] पर्यटन करना, भटकना। परिवभमइ (प्राक् ७६, भवि, उव)। वक्तु परिवभमत (सुर २, ८७, ३, ४, ४, ७१, भवि)।

परिवभमण न [परिभ्रमण] पर्यटन (महा)।

परिवभसिअ वि [परिभ्रान्त] भटका हुआ (वे ६३, सण, भवि)।

परिवभोअ वि [परिभोत] भय-प्राप्त (पउम ५३, ३६)।

परिवभूअ वि [परिभूत] पराभव-प्राप्त (सुपा २५८)।

परिभग्ग वि [परिभग्न] भांगा हुआ (आत्मानु १४)।

परिभट्ट देखो परिवभट्ट (महा, पि ८५)।

परिभणिर वि [परि + भणित्] कहनेवाला (सण)।

परिभम देखो परिवभम। परिभमइ (महा)। वक्तु परिभमत, परिभममाण (महा, सण, भवि, सवेग १४)। सक्तु परिभमिउणं (पि ५८५)। हेक्तु परिभमिउ (महा)।

परिभमिअ देखो परिवभमिअ (भवि)।

परिभमिर वि [परिभ्रमित्] पर्यटन करने-वाला (सुपा २६६)।

परिभव सक [परि + भू] पराजय करना, तिरस्कारना। परिभवइ (उव)। कर्म परि-भविन्नामि (मोह १०८)। क्तु परिभवणिज्ज (शाया १, ३)।

परिभव पु [परिभव] पराभव, तिरस्कार (श्रौप, स्वण १०, प्रासू १७३)।

परिभवत पु [परिभवत्] पार्श्वस्थ साधु, शिखिलाचारी मुनि (वव १)।

परिभवण न [परिभवन्] ऊपर देखो (राज)।

परिभवणा स्त्री [परिभवन्] ऊपर देखो (श्रौप)।

परिभविअ वि [परिभूत] अमिमूत (धर्मवि ३६)।

परिभाअ सक [परि + भाज्य] वांटना, विभाग करना। परिभाएइ (कण्)। वक्तु परिभाइत, परिभायत, परिभाएमाण (आचा २, ११, १८, शाया १, ७—पत्र ११७, १, १, कण्)। वक्तु परिभाइज्ज-

पवट्ट वि [प्रवृत्त] जिसने प्रवृत्ति की हो वह (पड, हे २, २६ टि)।

पवट्टय वि [प्रवर्त्तक] प्रवृत्ति करानेवाला (राज)।

पवट्टि औ [प्रवृत्ति] प्रवर्त्तन (हम्मोर १५)।

पवट्टिअ वि [प्रवर्त्तित] प्रवृत्त किया हुआ (भवि, दे)।

पवट्ट देखो पवट्ट = प्रकोष्ठ (हे १, १५६)।

पवड अक [प्र + पत्] पडना, गिरना।

पवडइ, पवडिज, पवडेज (भग, कप्प, आचा २, २, ३, ३)। वक्क पवडत, पवडेमाण (खाया १, १, सिरि ६८६, आचा २, २, ३, ३)।

पवडण न [प्रपतन] अघ पात (बृह ६)।

पवडणया } औ [प्रपतना] ऊपर देखो (ठा
पवडणा } ४, ४—पत्र २८०, राज)।

पवडेमाण देखो पवड।

पवड्ह अक [दे] पोढना, सोना, 'जाव राया पवड्ह ताव कहेहि किचि अक्खाणय' (सुख ६, १)।

पवड्ह अक [प्र + वृध] बढना। पवड्हइ (उव)। वक्क पवड्हमाण (कप्प, सुर १, १८१, श्रु १२४)।

पवड्ह वि [प्रवृद्ध] बढा हुआ (अक्क ७०)।

पवड्हण न [प्रवर्धन] १ बढाव, प्रवृद्धि (सवोष ११)। २ 'दे तढनिवाला, 'ससारस्स पवड्हण' (सुअ १, १, २, २४)।

पवड्हिय वि [प्रवर्धित] बढाया हुआ (भवि)।

पवण वि [प्रवण] १ तत्पर (कुप्र १३४)। २ तंदुरुस्त, स्वस्थ, सुस्थ, 'पडियरिओ तह, पवणो पुव्व व जहा स सजाओ' (उप ५६७ टी, कुप्र ४१८)।

पवण न [प्लवन] १ उद्वल कर गमन (जीव ३)। २ तरण, 'तरिउकामस्स पवहण (१ वण) किच्च' (खाया १, १४—पत्र १६१)। ३ 'विच्च पुं [वृत्त्य] नोका, नाव, डोगी (खाया १, १४)।

पवण पु [पवन] १ पवन, वायु (पाथ, प्रासू १०२)। २ देव-जाति विशेष, भवनपति देवो की एक अवान्तर जाति, पवनपुमार (भौप, पएह १, ४)। ३ हनुमान का पिता (से १,

४८)। ४ 'गइ पुं [गति] हनुमान का पिता (पउम १५, ३७), वानरद्वीप के राजा मन्दर का पुत्र (पउम ६, ६८)। ५ 'चड पु [चण्ड] व्यक्ति-वाचक नाम (महा)। ६ 'तणअ पु [तनय] हनुमान (से १, ४८)। ७ 'नदण पु [नन्दन] हनुमान (पउम १६, २७, सम्मत १२३)। ८ 'पुत्त पुं [पुत्र] हनुमान (पउम ५२, २८)। ९ 'वेग पु [वेग] १ हनुमान का पिता (पउम १५, ६५)। २ एक जैन मुनि (पउम २०, १६०)। ३ 'सुअ पुं [सुत] हनुमान (पउम ४६, १३, से ४, १३, ७, ४६)। ४ 'णड पु [नन्द] हनुमान (पउम ५२, १)।

पवणजअ पुं [पवनजय] १ हनुमान का पिता (पउम १५, ६)। २ एक श्रेष्ठि-पुत्र (कुप्र ३७७)।

पवणिय वि [प्रवणित] सुस्थ किया हुआ, तदुरुस्त किया हुआ (उप ७६८ टी)।

पवण देखो पवण (सण)।

पवत्त देखो पवट्ट = प्र + वृत्। पवत्तइ, पवत्तए (पव २४७, उव)।

पवत्त सक [प्र + वर्त्तय] प्रवृत्त करना। पवत्तइ, पवत्तेहि (वव १, कप्प)।

पवत्त देखो पवट्ट = प्रवृत् (पउम ३२, ७०, -स ३७१, रभा)।

पवत्तग वि [प्रवर्त्तक] प्रवृत्ति करानेवाला (उप ३३६ टी, धम्मवि १३२)।

पवत्तण न [प्रवर्त्तन] १ प्रवृत्ति (हे २, ३०, उत ३१, २)। २ वि प्रवृत्ति करानेवाला (उत ३१, ३, पएह १, ५)।

पवत्तय वि [प्रवर्त्तक] १ प्रवृत्ति करनेवाला (हे २, ३०)। २ वि प्रवृत्त करानेवाला, 'तित्थवरम्भवत्तय' (अजि १८, गच्छ १, १०)।

पवत्ति औ [प्रवृत्ति] प्रवर्त्तन। १ 'वाउय वि [व्यापृत] प्रवृत्ति मे लगा हुआ (भौप)।

पवत्ति वि [प्रवर्त्तिन्] प्रवृत्ति करानेवाला (ठा ३, ३, कस, कप्प)।

पवत्तिणी औ [प्रवर्त्तिनी] साध्वियों की अध्यक्षा, मुख्य जैन साध्वी (सुर १, ४१, महा)।

पवत्तिय देखो पवट्टिअ (काल)।

पवत्तिया औ [दे] सन्यासी का एक उपकरण (कुप्र ३७२)।

पवद देखो पवय = प्र + वद्। वक्क. पवदमाण (आचा)।

पवदि औ [प्रवृत्ति] ढकना, आच्छादन (सस्ति ६)।

पवद्ध देखो पवड्ह = प्र + वृत्। वक्क. पवद्धमाण (वेइय ६१६)।

पवद्ध पुं [दे] धन, हथौडा (दे ६, ११)।

पवद्धिय देखो पवड्हिय (महा)।

पवन्न वि [प्रपन्न] १ स्वीकृत, अंगीकृत (वेइय ११२, प्रासू २१)। २ प्राप्त, 'गुरुणगुरुवियणपवन्नामाणसो' (महा)।

पवमाण देखो पव = प्लु।

पवमाण पुं [पवमान] पवन, वायु (कुप्र ४४४, सुपा ८६)।

पवय सक [प्र + वद्] १ बकवाद करना। २ वाद-विवाद करना। वक्क. पवयमाण (आचा १, ५, १, ३)।

पवय सक [प्र + वच्] बोलना, कहना। भवि कवक्क पवक्खमाण (अम्मं ६१)। कर्म पवुच्चइ, पवुच्चई, पवुच्चति (कप्प, पि ५४४, अण)।

पवय देखो पवक = प्लवक (उप पु २१०)।

पवय पु [प्लवग] वानर, कपि (पउम ६५, ५०, हे ४, २२०, पाथ, से २, ३७, १५, १७)। २ 'वइ पु [पति] वानरों का राजा सुग्रीव (से २, ३६)। ३ 'हिब पु [धिप] वही पूर्वोक्त अर्थ (से २, ४०, १२, ७०)।

पवयण पु [प्राजन] कोडा, चाबुक (दे २, ६७)।

पवयण न [प्रवचन] १ जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त, जैन शास्त्र (भग २०, ८, प्रासू १८२)। २ जैन सघ, 'गुणसमुदायो सवो पवयण तित्थ ति होइ एगट्ठा' (पंचा ८, ३६, विने १११२, उप ४२३ टी, भौप)। ३ आगम-ज्ञान (विसे १११२)। ४ 'माया औ [माता] पाच समिति और तीन गुति रूप धर्म (सम १३)।

पवर वि [प्रवर] श्रेष्ठ, उत्तम (उवा, मुपा ३१६, ३४१, प्रासू १२६, १५४)।

परिमा (अप) देखो पडिमा (भवि) ।
 परिमाइ छी [परिमाति] परिमाण, 'जिण-
 सासणि छज्जीवदयाइ व पडियमरणि सुगइ-
 परिमाइ व' (भवि) ।
 परिमाण न [परिमाण] मान, माप, नाप
 (श्रौप, स्वप्न ४२, प्रासू ८७) ।
 परिमास पु [परिमर्श] स्पर्श (खाया १, ६,
 गउड, से ६, ४८, ६, ७६) ।
 परिमास पु [दे] नौका का काष्ठ-विशेष
 (खाया १, ६—पत्र १५७) ।
 परिमासि वि [परिमर्शिन्] स्पर्श करनेवाला
 (पि ६२) ।
 परिमिज्ज नीचे देखो ।
 परिमिण सक [परि + मा] नापना, तौलना ।
 वहु परिमिणत (सुपा ७७) । क परिमिज्ज,
 परिमेय (पत्र ५६, पत्रम ४६, २२) ।
 परिमिअ वि [परिमित] परिमाण-युक्त
 (कम्प, ठा ५, १, श्रौप, परहू २, १) ।
 परिमिअ वि [परिवृत] परिकरित, वेष्टित
 (पत्रम १०१, भवि) ।
 परिमिळा अक [परि + म्लै] म्लान होना ।
 परिमिळादि (श्री) (पि १३६, ४७६) ।
 परिमिळाण वि [परिम्लान] म्लान, विच्छ्राय,
 निम्नेज (महा) ।
 परिमिडिह वि [परिमोक्क] परित्याग करने-
 वाला (सण) ।
 परिमुअ सक [परि + मुच्] परित्याग
 करना । परिमुअइ (सण) ।
 परिमुअ वि [परिमुक्त] परित्यक्त (सुपा
 २५२, महा, सण) ।
 परिमुट्ट वि [परिमृष्ट] मृष्ट (मा ४४) ।
 परिमुण सक [परि + जा] जानना । परि-
 मुणनि (वज्जा १०४) ।
 परिमुणिअ वि [परिज्ञात] जाना हुआ
 (पत्रम १६, ६१, मण) ।
 परिमुस सक [परि + सुप्] चोरी करना ।
 वट परिमुसत (मा २७) । सक परिमु-
 सिउण (कपूर २६) ।
 परिमुम सक [परि + मुअ] स्पर्श करना,
 घृना । परिमुअ (भवि) ।
 परिमुसण न [परिमोपण] १ चोरी । २
 चञ्चना, ठगई (गा २६) ।

परिमुसिअ वि [परिमृष्ट] मृष्ट (महानि ४,
 भवि) ।
 परिमुसण देखो परिमुसण (गा २६) ।
 परिमेय देखो परिमिण ।
 परिमोक्कल वि [दे परिमुक्त] स्वैर,
 स्वच्छन्दी (भवि) ।
 परिमोक्कल पु [परिमोक्ष] १ मोक्ष, मुक्ति
 (आचा) । २ परित्याग (सूत्र १, १२, १०) ।
 परिमोय सक [परि + मोचय] छोडाना,
 छुटकारा कराना । परिमोयह (सूत्र २, १,
 ३६) ।
 परिमोयण न [परिमोचन] मोक्ष, छुटकारा
 (सुर ४, २५०, श्रौप) ।
 परिमोस पु [परिमोप] चोरी (महा) ।
 परियच सक [परि + अच्] १ पास मे
 जाना । २ स्पर्श करना । ३ विभूषित करना ।
 सक परिअचिवि (अप) (भवि) ।
 परियच सक [परि + अच्] पूजना । सक
 परिअचिवि (अप) (भवि) ।
 परियचण न [पर्यञ्चन] स्पर्श करना (सुख
 ३, १) । देखो पलियचण ।
 परियचिअ वि [पर्यञ्चित] विभूषित, 'पव-
 रारामगामपरियचिअ' (भवि) ।
 परियचिअ वि [पर्यञ्चित] पूजित (भवि) ।
 परियंद सक [परि + वन्द] वन्दन करना,
 स्तुति करना । कवहु परियदिज्जमाण
 (श्रौप) ।
 परियदण न [परिवन्दन] वन्दन, स्तुति
 (आचा) ।
 परियन्छ सक [दृश] १ देखना । २
 जानना । परियच्छइ (भवि, उव), परियच्छति
 (उव) ।
 परियच्छिय देखो परिक्कच्छिय (राज) ।
 परियच्छी छी [परिकक्षी] परदा (धर्मरत्न
 वृ० गा० ३१ पत्र २५, २) ।
 परियत्थि छी [पर्यत्थि] देखो पत्हत्थिया,
 'जतो वायइ पवणो परियत्थी दिज्जए ततो'
 (चिदय १३०) ।
 परियप्प सक [परि + कल्पय] कल्पना
 करना, चिन्तन करना । वहु, परियप्पमाण
 (आचा १, २, १, २) ।

परियप्पण न [परिकल्पन] कल्पना (धर्मसं
 १२०८) ।
 पारयथ पु [परिचय] जान-पहचान, विशेष
 रूप से ज्ञान (गउड, से १५, ६६, अभि
 १३१) ।
 परियय वि [परिगत] अन्वित, युक्त (स
 २२) ।
 परियाइ सक [पर्या + दा] १ समन्ताद्
 ग्रहण करना । २ विभाग से ग्रहण करना ।
 परियाइयह (सूत्र २, १, ३७) । सक
 परियाइत्ता (ठा ७) ।
 परियाइअ वि [पर्यात्त] सपूर्ण रूप से गृहीत
 (ठा २, ३—पत्र ६३) ।
 परियाइअ देखो परियाईय (ठा २, ३—पत्र
 ६३) ।
 परियाइणया छी [पर्यादान] समन्ताद्
 ग्रहण (परण ३४—पत्र ७७४) ।
 परियाइत्त वि [पर्याप्त] काफी (राज) ।
 परियाईय वि [पर्यायातीत] पर्याय को
 अतिक्रान्त (राज) ।
 परियाग देखो पज्जाय (श्रौप, उवा, महा-
 कण) ।
 परियागय वि [पर्यागत] १ पर्याय से
 आगत (उत्त ५, २१, सुख ५, २१, खाया
 १, ३) । २ सर्वथा निष्पन्न (खाया १, ७—
 पत्र ११६) ।
 परियाग सक [परि + जा] जानना ।
 परियाणइ, परियाणाइ (पि १७०, उवा) ।
 परियाण न [परिज्ञाण] रक्षण (सूत्र १, १,
 २, ६, ७) ।
 परियाण न [परिदान] १ विनिमय, बदला,
 लेनदेन । २ समन्ताद् दान (भवि) ।
 परियाण न [परियान] १ गमन (ठा १०) ।
 २ वाहन, यान (ठा ८) । ३ अवतरण (ठा
 ३, ३) ।
 परियाणण न [परिज्ञान] जानकारी (स
 १३) ।
 परियाणिअ वि [परिज्ञाणित] परित्राण-
 युक्त (सूत्र १, १, २, ७) ।
 परियाणिअ वि [परिज्ञात] जाना हुआ,
 विदित (पत्रम ८८, ३३, रत्न १८, भवि) ।

पविज्जल वि [प्रविज्वल] १ प्रज्वलित (सूत्र १, ५, २, ५) । २ खिरादि से पिच्छल—व्याप्त (सूत्र १, ५, २, १६, २१) ।
 पविट्ट वि [प्रविष्ट] घुसा हुआ (उवा, सुर ३, १३६) ।
 पविणी सक [प्रवि + णी] दूर करना । पविरोति (भग) ।
 पवित्त पुं [पवित्र] १ दम, क्रुश, वृण-विशेष (दे ६, १४) । २ वि निर्दोष, निष्कलङ्क, शुद्ध, स्वच्छ (कुमा, भग, उत्तर ४४) ।
 पवित्त देखो पवट्ट = प्रवृत्त (से ६, ५७) ।
 पवित्त सक [पवित्रय] पवित्र करना । वक्क पविचयत (सुपा ८५) । क. पवित्तियव्व (सुपा ५८४) ।
 पवित्तय न [पवित्रक] अगुठी, अगुलीयक (खया १, ५, औप) ।
 पवित्ताविय वि [प्रवत्तित] प्रवृत्त किया हुआ (भवि) ।
 पवित्ति देखो पवत्ति = प्रवृत्ति (सुपा २, औप ६३, औप) ।
 पवित्तिणी देखो पवत्तिणी (कस) ।
 पविस्थर अक [प्रवि + स्त्] फेलाना । वक्क पविस्थरमाण (पव २५५) ।
 पविस्थर पुं [प्रविस्तर] विस्तार (उवा, सूत्र २, २, ६२) ।
 पविस्थरिअ वि [प्रविस्सृत] विस्तीर्ण (स ७१०) ।
 पविस्थरिअ वि [प्रविस्तरिन्] विस्तारवाला (राज—पएह १, ५) । देखो पविरल्लिय ।
 पविस्थारि वि [प्रविस्तारिन्] फैलनेवाला गड) ।
 वेद्ध देखो पविवद्ध (पव २) ।
 पविद्धस अक [प्रवि + ध्वस] १ विनाशामि-मुक्त होना । २ विनष्ट होना, 'तेण पर जोणी पविद्धसइ, तेण पर जोणी विद्धमइ' (ठा ३, १—पत्र १२३) ।
 पविद्धत्थ वि [प्रविध्वस्त] विनष्ट (जीव ३) ।
 पविभत्ति ली [प्रविभक्ति] धृषक-पृषक विभाग (उत्त २, १) ।
 पविभाग पुं [प्रविभाग] ऊपर देखो (विसे १६४२) ।

पविमुक्क वि [प्रविमुक्त] परित्यक्त (सुर ३, १३६) ।
 पविमोयण न [प्रविमोचन] परित्याग (औप) ।
 पविय वि [प्राप्त] प्राप्त, 'भुवि उवहास पविया दुक्खाण हुतिते रिणया' (आरा ४४) ।
 पवियभिर वि [प्रविज्जम्भित्] १ उल्लसित होनेवाला । २ उत्पन्न होनेवाला (सण) ।
 पवियक्खिय न [प्रवित्किंत] विकल्प, वितर्क (उत्त २३, १४) ।
 पवियक्खण वि [प्रविचक्षण] विशेष प्रवीण (उत्त ६, ६३) ।
 पवियार पु [प्रवीचार] १ काया और वचन की चेष्टा-विशेष (उप ६०२) । २ काम-क्रीडा, मैथुन (देवेन्द्र ३४७, पव २६६) ।
 पवियारण न [प्रविचारण] सचार, 'वाउप-वियारण्ण छभाय ऊणय कुजा' (पिड ६५०) ।
 पवियारणा ली [प्रविचारणा] काम-क्रीडा, मैथुन (देवेन्द्र ३४७) ।
 पवियास सक [प्रवि + काशय] फाडना, खोलना, 'पवियासइ नियवयण' (घर्मवि १२४) ।
 पवियासिय वि [प्रविकासित] विकसित किया हुआ, 'पवियासियकमलवण खए निहालेइ दिण्णाह' (सुपा ३४) ।
 पविरइअ वि [दे] त्वरित, शीघ्रता-युक्त (दे ६, २८) ।
 पविरंज सक [भञ्ज] भौंगना, तोडना । पविरजइ (हे ४, १०६) ।
 पविरजव वि [दे] स्निग्ध, स्नेह-युक्त (पइ) ।
 पविरज्जिअ वि [भञ्ज] भौंगा हुआ (कुमा, दे ६, ७४) ।
 पविरज्जिअ वि [दे] १ स्निग्ध, स्नेह-युक्त । २ कृत-निपेय, निवारित (दे ६, ७४) ।
 पविरल वि [प्रविरल] १ अनिबिड । २ विच्छिन्न (गड) । ३ अत्यन्त थोडा, बहुत ही कम, 'परकज्जकरणरसिया दोसति महीए पविरलनरिवा' (सुपा २४०) ।
 पविरल्लिय वि [दे] विस्तारवाला (पएह १, ५—पत्र ६१) । देखो पवित्यरिट् ।

पविरिअ वि [प्रविरिअ] एकदम शून्य, विलकुल खाली (गड ६८५) ।
 पविरेल्लिय [दे] देखो पविरल्लिय (पएह १, ५ टी—पत्र ६२) ।
 पविलुंप सक [प्रवि + लुप्] विलकुल नष्ट करना । कवक्क, पविलुंप्पमाण (महा) ।
 पविलुत्त वि [प्रविलुत्त] विलकुल नष्ट (उव ५६७ टी) ।
 पविलुंप्पमाण देखो पविलुप ।
 पविस सक [प्र + विश] प्रवेश करना, घुसना । पविसइ (उव, महा) । भवि पविसिस्सामि, पविसिहिइ (पि ५२६) । वक्क पविसत, पविसमाण (पउम ७६, १६, सुपा ४४८, विपा १, ५, कप्प) । सक्क पविसित्ता, पविसित्तु, पविसिअ, पविसिऊण (कप्प, महा, भग्नि ११६, काल) । हेक्क पविसित्ताए, पवेट्टु (कस, कप्प, पि ३०३) । क. पविसिअव्व (औप ६१, सुपा ३८१) ।
 पविसण न [प्रवेशण] प्रवेश, पैठ (पिड ३१७) ।
 पविसु सक [प्रवि + सु] उत्पन्न करना । सक्क पविसुत्ता (सूत्र २, २, ६५) ।
 पविस्स देखो पविस । पविस्सइ (महा) । वक्क पविस्समाण (भवि) ।
 पविहर सक [प्रवि + ह्] विहार करना, विचरना । पविहरति (उव) ।
 पविहस अक [प्रवि + ह्स्] हसना, हास्य करना । वक्क पविहसत (पउम ५६, १७) ।
 पवीइय वि [प्रवीजित] हवा के लिए चलाया हुआ (औप) ।
 पवीण वि [प्रवीण] निपुण, दक्ष (उव ६८६ टी) ।
 पवीणी देखो पविणी । पवीणेइ (औप) ।
 पवील सक [प्र + पीडय] पीडना, दमन करना । पवीलए (आत्ता १, ४, ४, १) ।
 पवुच्चं देखो पवच = प्र + वच् ।
 पवुट्ट वि [प्रवृट्ट] १ शून्य धरमा हुआ, जिसने प्रभूत वृष्टि की हो वह (आत्ता २, ४, १, १३) । २ न प्रभूत वृष्टि, वर्षण, 'कले पवुट्टं निम अहिणदिद देयत्त सावण' (भग्नि २२०) ।

परिह—परिवाइ

परिह देखो पर = पर (से ६, १७)।
 परिहवास वि [दि] अनात-गति (दे ६, ३३)।
 परिहो देखो परिहो = दे (राय ४६)।
 परिहो देखो परिहो। वक्र. परिहित,
 परिहंत (श्रीप)।
 परिहस अक [परि + खंस्] गिर पडना,
 सरक जाना। परिहसइ (हि ४, १६७)।
 परिहइत्तु वि [परिहित] गमन करने मे
 समर्थ (ठा ४, ४—पत्र २७१)।
 परिवकड (अप) वि [परिवक] सर्वथा टेढा
 (भवि)।
 परिवच सक [परिवच्य] ठगना। सक
 परिवचिऊण (सम्मत ११८)।
 परिवचिअ वि [परिवचिअ] जो ठगा गया
 हो (दे ४, १८)।
 परिवधि वि [परिपथिन्] विरोधी, दुश्मन
 (पि ४०५, नाट—विक्र ७)।
 परिवदण न [परिवन्दन] स्तुति, प्रशंसा
 (आचा)।
 परिवदिय वि [परिवन्दित] स्तुत, पूजित
 (पत्र १, ६)।
 परिवन्धिय देखो परिवच्छिय (श्रीप)।
 परिवगगु [परिवर्ग] परिजन-वर्ग (पत्र
 २३, २४)।
 परिवच्छ न [दि] अवधारण, निधय, 'साम-
 एत्य परिवच्छे' (कल्पगा० २१४२)।
 परिवच्छिय देखो परिफच्छिय, 'उजलनेवत्य-
 ह्यपरिवच्छिय' (शाया १, १६ टी—पत्र
 २२१, श्रीप)। देखो परिवस्थिय।
 परिवज सक [प्रति + पद] स्वीकार करना।
 परिवजइ (भवि)।
 परिवज सक [परि + वर्ज्य] परिहार
 करना, परित्याग करना। परिवजइ (भवि)।
 मह परिवजिय, परिवजियाण (आचा,
 पि ५६२)।
 परिवजण न [परिवर्जन] परित्याग (धर्मस
 ११२०)।
 परिवजणा गी [परिवर्जना] ऊपर देखो
 (व)।
 परिवजिय वि [परिवर्जित] परित्यक्त (जना,
 नाग भवि)।

परिवट्ट देखो परिवत्त = परि + वत्तं। परि-
 वट्टइ (भवि)। सक. परिवट्टि वि (अप)
 (भवि)।
 परिवट्टण न [परिवर्तन] आवर्तन, आवृत्ति,
 'आगमपरिवट्टण' (सवोष ३६)।
 परिवट्टि देखो परिवत्ति (मा ५२)।
 परिवट्टिय देखो परिवत्तिय (भवि)।
 परिवट्टुल वि [परिवर्तुल] गोलाकार (स
 ६८)।
 परिवड अक [परि + पत्] पडना। वक्र
 परिवडत, परिवडमाण (पत्र ५, ६२, ६७,
 उप पृ ३)।
 परिवडिअ वि [परिपतित] गिरा हुआ (सुपा
 ३६०, वसु, यति २३, हम्मीर ३०, पचा
 ३, २४)।
 परिवडड अक [परि + वृध्] बढना।
 परिवडइ (महा, भवि)। भवि. परिवडिइसइ
 (श्रीप)। कृ. परिवडडंत, परिवडडमाण,
 परिवडडेमाण (गा ३४६, शाया १, १३,
 महा, शाया १, १०)।
 परिवडडण न [परिवर्धन] परिवृद्धि, बढाव
 (गडड, धर्मस ८७५)।
 परिवडिडि वी [परिवृद्धि] ऊपर देखो (से
 ५, २)।
 परिवडिडिअ देखो परिअडिडिअ = परिवर्धित
 (श्रीप १६ टि)।
 परिवडिडिअ वि [परिवर्धित] बढाया हुआ
 (गा १४२, ४३१)।
 परिवडडेमाण देखो परिवडड।
 परिवण सक [परि + वर्ण्य] वर्णन
 करना। कृ. परिवणोअव (भग)।
 परिवणिअ वि [परिवर्णित] जिसका वर्णन
 किया गया हो वह (आत्म ७)।
 परिवत्त देखो परिअट्ट = परि + वृत्। परि-
 त्तई (उत्त ३३, १)। परिवत्तसु (गा ८०७)।
 वक्र. परिवत्त (गा २८३)।
 परिवत्त देखो परिअट्ट = परि + वत्तं। वक्र
 परिवत्त, परिवत्तयत (स ६, सूय १, ५,
 १, १५)। सक. परिवत्तिऊण (काल)।
 परिवत्त देखो परिअट्ट = परिवर्त, 'विहियल्व-
 परिवत्तो' (कुप्र ३३४)। २ सचरण, अमण
 (राज)।

परिवत्त देखो परिअत्त = परिवृत्त (काल)।
 परिवत्तण देखो पडिअत्तण (पि २८६;
 नाट—विक्र ८३)।
 परिवत्तर (अप) वि [परिपक्वम] पकाया
 गया, मरम किया गया, 'अणु मलेवि सुअंवा-
 मोएं निमज्जिअ परिवत्तरतोए' (भवि)।
 परिवत्ति वि [परिवर्तिन्] बदलानेवाला,
 'ल्वपरिवत्तिणी विज्जा' (कुप्र १२६, महा)।
 परिवत्तिय देखो परिअट्टिय (सुपा २६२)।
 परिवत्थ न [परिवल्ल] वक्र, कपडा (भवि)।
 परिवत्थिय वि [परिवल्लित] आच्छादित,
 'उजलनेवच्छहत्थ (ल्व) परिवत्थिय' (श्रीप)।
 देखो परिवच्छिय।
 परिवट्ट देखो परिवडड। वक्र. परिवडडमाण
 (राज)।
 परिवन्न देखो पडिवन्न (उप १३६ टी)।
 परिवथ अक [परि + वत्] तिमंक गिरना।
 परिवयति (राय १०१)।
 परिवथ सक [परि + वद्] निन्दा करना।
 परिवण्णा, परिवयति (आचा)। वक्र-
 परिवयत (परह १, ३)।
 परिवरिअ वि [परिवृत्] परिकरित, वेष्टित
 (सुपा १२५)।
 परिवल्लअ वि [परिवल्लयित] वेष्टित (सुख
 १०, १)।
 परिवस अक [परि + वस्] बसना, रहना।
 परिवसइ, परिवसति (अम, महा, पि ४१७)।
 परिवसण न [परिवसन] आवास (राज)।
 परिवसणा वी [परिवसना] पयुंषणा पव
 (निवृ १०)।
 परिवसिअ वि [पर्युषित] रहा हुआ, बास
 किया हुआ (सण)।
 परिवह सक [परि + वह्] वहन करना,
 ढोना। २ अक चासु रहना। परिवहइ
 (कम्प)। परिवहति (गडड)। वक्र. परिवहत्त
 (पिंड ३५६)।
 परिवहण न [परिवहन] ढोना (राज)।
 परिवा अक [परि + वा] सूखना। परिवाइ
 (गडड)।
 परिवाइ वि [परिवादिन्] निन्दा करनेवाला
 (व)।

कक्क. पञ्चहिज्जामाण (णाया १, १६—
पत्र १६६)।
पञ्चहणा स्त्री [प्रव्यथना] व्यथा, पीडा
(श्रीप)।
पञ्चहिय वि [प्रव्यथित] अति दुःखित
(भावा १, २, ६, १)।
पञ्चा स्त्री [पवा] लोकपालो की एक वाह
परिषद् (ठा ३, २—पत्र १२७)।
पञ्चाअत देखो पञ्चाय = स्त्री।
पञ्चाइअ वि [प्रत्राजित] १ जिसको दीक्षा
दी गई हो वह (सुपा ५६६)। २ न दीक्षा
देना (राज)।
पञ्चाइअ वि [स्तान] विज्जाय, शुष्क (कुमा
६, १२)।
पञ्चाइआ स्त्री [प्रत्राजिका] परिव्राजिका,
सन्यासिनी (महा)।
पञ्चाडिअ देखो पञ्चालिअ = प्लावित (से
५, ४१)।
पञ्चाण वि [स्तान] शुष्क, सूखा (श्रीप
४८८)।
पञ्चाय देखो पवाय = प्र + वा। पञ्चायइ
(प्राकृ ७६)।
पञ्चाय सक [प्र + ब्राजय] दीक्षित करना
(सुपा ५६६)।
पञ्चाय अक [स्त्री] सूखना। पञ्चायइ (हे ४,
१८)। वक्क. पञ्चाअत (से ७, ६७)।
पञ्चाय वि [स्तान, प्रवाण] शुष्क, सूखा
हुआ (पात्र, श्रीप ३६३, स २०३, से ४८,
६, ६३, पिड ४४)।
पञ्चाय पुं [प्रवात] प्रकृष्ट पवन (गा ६२३)।
पञ्चाल सक [छादय] ढकना, आच्छादन
करना। पञ्चालइ (हे ४, २१)।
पञ्चाल सक [प्लावय] खूब भिजाना,
तरावोर करना। पञ्चालइ (हे ४ ४१)।
पञ्चालण न [प्लावन] तरावोर करना (से
६, १५)।
पञ्चालिअ वि [प्लावित] जल-व्याप्त, सरा-
वोर किया हुआ (पात्र, कुमा. से ६, १०)।
पञ्चालिअ वि [छादित] ढका हुआ (कुमा)।
पञ्चाव सक [प्र + ब्राजय] दीक्षित करना,
संन्यास देना। पञ्चावेइ (भग)। संकृ. पञ्चा-

वेऊण (पचव २)। हेकृ. पञ्चावित्तए,
पञ्चावेत्तए, पञ्चावेउ (ठा २, १, कस,
पचमा)।
पञ्चावण न [प्रत्राजन] दीक्षा देना (उव,
श्रीप ४४२ टी)।
पञ्चावण न [दे] प्रयोजन (पिड ५१)।
पञ्चावणा स्त्री [प्रत्राजना] दीक्षा देना (श्रीप
४४३, पव २५, सूअनि १२७)।
पञ्चाविय वि [प्रत्राजित] दीक्षित, साधु
बनाया हुआ (णाया १, १—पत्र ६०)।
पञ्चाह सक [प्र + वाहय] बहाना, प्रवाह
मे डालना। वक्क. पञ्चाहमाण (भग ५, ४)।
पञ्चिद्ध वि [दे] प्रेरित (दे ६, ११)।
पञ्चिद्ध वि [प्रवृद्ध] महान्, बडा (से १४,
५१)।
पञ्चिद्ध न [प्रविद्ध] गुरु-वन्दन का एक दोष,
वन्दन को समाप्त किये बिना ही भागना
(पव २)।
पञ्चीसग न [दे पञ्चीसग] वायु विशेष
(परह १, ४—पत्र ६८)।
पसइ स्त्री [प्रसृति] १ नाप-विशेष, दो प्रसृति—
पसर का एक परिमाण (तदु २६)। २ पूर्ण
अञ्जलि, दो हस्त-तल—श्रीजुरी मिला कर
भरी हुई चीज (कुप्र ३७४)।
पसग पुन [प्रसङ्ग] १ परिवय, उपलक्ष (स
३०५)। २ सगति, सबन्ध, 'लोए पलीवण
पिव पलालपूलप्पसगेण' (ठा ४, ४, कुप्र
२६)।
'वर विट्ठिसो सण्पो वर हालाहल विस।
हीणायारागीयत्वयणसग खु एगे भइ'
(सबोध ३६)। ३ आपत्ति, अनिष्ट-प्राप्ति
(स १७४)। ४ नैयुन, काम-क्रीडा (परह १,
४)। ५ आसक्ति। ६ प्रस्ताव, अधिकार
(गठड, भवि, पचा ६, २६)।
पसगि वि [प्रसङ्गिन्] प्रसग करनेवाला,
आसक्त, 'जुयप्पसगी' (महा, णाया १, २)।
पसंज अक [प्र + सज्ज] १ आसक्ति करना।
२ आपत्ति होना, अनिष्ट-प्राप्ति होना। पसजइ
(उव), 'अण्णिन्ने जीवलीगम्मि किं हिंसाए
पसज्जिं' (उत्त १८, ११, १२)। पसज्जा
(विसे २६६)।
पसडि न [दे] कनक, सुवर्ण (दे ६, १०)।

पसत वि [प्रशान्त] १ प्रकृष्ट शान्त, शम-
प्राप्त (कप्प, स ४०३, कुप्र)। २ साहित्य-
शास्त्र प्रसिद्ध रस-विशेष, शान्त रस (भ्रगु)।
पसति स्त्री [प्रशान्ति] नाश, विनाश, 'सव्व-
दुक्खप्पसंतीण' (अजि ३)।
पसधण न [प्रसन्धान] सतत प्रवर्तन (पिड
४६०)।
पसस सक [प्रशास्] श्लाघा करना। पस-
सइ (महा, भवि)। वक्क. पससत, पसस-
माण (पउम २८, १५, २२, ६८)। कक्क.
पससिज्जामाण (वसु)। संकृ. पससिऊण
(महा)। कृ. पससणिज्ज, पसस्स, पस-
सियव्व (सुपा ४७, ६४५, सुर १, २१६,
पउम ७५, ८), देखो पसंस।
पसस वि [प्रशस्य] १ प्रशसा-योग्य। २
पु लोभ (सूअ १, २, २, २६)।
पससण न [प्रशसन] प्रशसा, श्लाघा (उप
१४२ टी, सुपा २०६, उप प १७)।
पससय वि [प्रशसक] प्रशसा करनेवाला
(था ६, भवि)।
पससा स्त्री [प्रशसा] श्लाघा, स्तुति, वरुण
(प्रासू १६७, कुमा)।
पससिअ वि [प्रशसित] श्लाघित (उत्त १४,
३८)।
पसज्जं देखो पसज।
पसज्जक } अ [प्रसह] १ तुले तीर से, प्रवट
पसज्जक } रीति से (सूअ १, २, २, १६)।
२ हाठ, बलात्कार से (स ३१)।
पसज्जकेय न [प्रसहचेतस्] धर्म-निरपेक्ष
चित्त, कदाग्रही मन (दसजू १, १४)।
पसड वि [प्रसह] अनेक दिन रतकर गुना
किया हुआ (दम ५, १, ७२)।
पमड वि [प्रशठ] अत्यंत शठ (सूअ २,
४, ३)।
पसड देखो पमज्जक (दस ५, १, ७२)।
पसडिल वि [प्रशियिल] विशेष दीक्षा (हे
१, ८६)।
पसण्ण वि [प्रमज्ज] १ सुख, स्वल्प (से ५,
४१, गा ४६५)। २ स्वच्छ, निर्मल (श्रीप,
श्रीप ३४५)। 'चट्ट पुं चन्द्र' नामान्
महावीर के समय का एष राजपि (उप,
पडि)।

परिवीह न [परिपीठ] आसन-विशेष (भवि) ।
परिवील सक [परि-पीड्य] दवाना ।
सक परिवीळियाण (आचा २, १, ८, १) ।
परिवुड वि [परिवृत्त] परिकरित, वेष्टित
(गाथा १, १४, धर्मवि २४, श्रौप, महा) ।
परिवुत्थ वि [पर्युषित] १ रहा हुआ । २
न. बास, निवास (गड ५४०) । देखो
परिवुत्सिअ ।

परिवुड देखो परिवुड (प्राक १२) ।

परिवुडि लो [परिवृत्ति] वेष्टन (प्राक १२) ।

परिवुत्साअ वि [पर्युषित] स्थित, रहा हुआ,
'जे मिस्रु अचेले परिवुत्सिए' (आचा १, ८,
७, १, १, ६, २, २) । देखो परिवुत्थ ।

परिवुत्सिअ वि [पर्युषित] गत, गुजरा हुआ
(आचा २, ३, १, ३) ।

परिवृढ वि [परिवृढ] समर्थ (उत्त ७, २) ।
परिवृढ वि [परिवृढ] स्थूल (भास ८६,
उत्त ७, ६) ।

परिवृढ वि [परिवृढ] १ बलवान, बलिष्ठ
(दस ७, २३) । २ मसिल, पुष्ट (आचा २,
४, २, ३) ।

परिवृढ वि [परिवृढ] वहन किया हुआ,
ढोया हुआ, 'न चइत्सामि अह पुण चिरपरि-
वृढ इम लोह' (धर्मवि ७) ।

परिवृहण देखो परिवृहण (राज) ।

परिवेढ सक [परि + वेष्ट] वेढना,
लपटना । परिवेढइ (भवि) । सक परिवेढिय
(निनु १) ।

परिवेढ पु [परिवेष्ट] वेष्टन, घेरा, 'जा जग्गइ
तो पिच्छइ सेवापरसुहइपरिवेढ' (सिदि
६३८) ।

परिवेढाविय वि [परिवेष्टित] वेष्टित कराया
हुआ (पि ३०४) ।

परिवेढिय वि [परिवेष्टित] वेढा हुआ, घेरा
हुआ, लपेटा हुआ (उप ७६८ टी, अण २०,
पि ३०४) ।

परिवेय प्रक [परि + वेप्] कांपना,
'वायरपरिण परिवेयइ' (भवि) ।

परिवेष्टि वि [परिवेष्टित] कम्पन-शील
(गड) ।

परिवेय प्रक [परि + वेप्] कांपना । वक्र
परिवेयमाग (आचा) ।

परिवेस सक [परि + विष्] परोसना ।
परिवेसइ (सुपा ३८६) । कर्म परिवेसिज्जइ
(खाया १, ८) । वक्र. परिवेसत, परि-
वेसयंत (पिड १२०, सुपा ११, याया
१, ७) ।

परिवेस पु [परिवेश, 'प' १ वेष्टन, (गड) ।
२ मंडल, मेघादि से सूर्य-चन्द्र का वेष्टनाकार
मंडल, 'परिवेसो अवरं फसवरणो' (पडम
६६, ४७, स ३१२ टी, गड) ।

परिवेसणा न [परिवेषण] परोसना (स
१८७, पिड ११६) ।

परिवेसणा लो [परिवेषणा] ऊपर देखो
(पिड ४४५) ।

परिवेसि [परिवेशिन्] समीप मे रहने-
वाला (गड) ।

परिव्वअ सक [परि + व्रज्] १ समताद्
गमन करना । २ दीक्षा लेना । परिव्वए,
परिव्वएज्जासि (सूअ १, १, ४, ३, पि
४६०) ।

परिव्वअ वि [परिवृत्त] परिवेष्टित, 'तारा-
परिव्वओ विव सरयपुरिणमाचदो' (वसु) ।

परिव्वअ वि [परिव्यय] विशेष व्यय
(नाट—मृच्छ ७) ।

परिव्वय पु [परिव्यय] खर्चा, खर्च करने
का घन (दस ३, १ टी) ।

परिव्वइ सक [परि + वह्] वहन करना,
धारण करना । परिव्वइइ (सबोव २२) ।

परिव्वाइया लो [परिव्रजिअ] सन्यासिनी
(खाया १, ८, महा) ।

परिव्वज (शौ) पु [परि + व्रज्] सन्यासी
(चाह ४६) ।

परिव्वजअ (शौ) पु [परिव्रजक] सन्यासी
(पि २८७, नाट—मृच्छ ८५) ।

परिव्वजिआ (शौ) देखो परिव्वाइया
(मा २०) ।

परिव्वाय देखो परिव्वज (सूअति ११२,
श्रौप) ।

परिव्वायय } पु [परिव्रजक] सन्यासी,
परिव्वायय } साधु (भग) ।

परिव्वायय वि [परिव्रजक] परिव्रजक-
सम्बन्धी (कप) ।

परिस देखो फारिस = स्पयं (गड, चाह ४२) ।

परिसक अक [परि + शडक्] भय करना,
डरना । वक्र. परिसकमाण (सूअ १, १०,
२०) ।

परिसंक्रिय वि [परिशुद्धित] भीत (परह
१, ३) ।

परिसंस्वा सक [परिसं + ख्या] १ अन्धी
तरह जानना । २ गिनती करना । सक
परिसंस्वाय (दस ७, १) ।

परिसखा लो [परिसख्या] सख्या, गिनती
(पडम २, ४६, जीवस ४०, पव—गाथा
१३, तदु ४, सण) ।

परिसग पुं [परिषङ्ग] सग, सोहवत (हम्मोर
१६) ।

परिसग पु [परिष्वङ्ग] आलिङ्गन (पडम
२१, ५२) ।

परिसगय वि [परिसगत] युक्त, सहित
(धर्मवि १३) ।

परिसठव सक [परिस + स्थापय्] सस्थापन
करना । परिसठवहु (अप) (पिमा) ।
वक्र परिसठवित (उपप ४३) ।

परिसठविय वि [परिसस्थापित] सस्थापित
(तदु ३८) ।

परिसठिय वि [परिसस्थित] स्थित, रहा
हुआ (महा) ।

परिसत वि [परिश्रान्त] थका हुआ (महा) ।

परिसथविय वि [परिसस्थापित] आस्थापित
(स ५६६) ।

परिसक सक [परि + ष्वक्] चलना,
गमन करना, इधर-उधर घूमना । परिसकइ
(उप ६ टी, कुप्र १७५) । वक्र. परिसकत,
परिसकमाण (काप्र ६१७, स ४१, १३६) ।

सक परिसकियण (सुपा ३१३) । क.
परिसकियण (स १६२) ।

परिसकण न [परिष्वकण] परिभ्रमण (से
५, ५५, १३, ५६, सुपा २०१) ।

परिसकिय अ वि [परिष्वकित] १ गत
(भवि) । २ न परिभ्रमण, परिभ्रमण (गा
६०६) ।

परिसकिय वि [परिष्वकित] गमन करने-
वाला (खाया १, १, पि ५६६) ।

परिसञ्जिअ (अप) वि [परिष्वक्त] आलिगित
(सण) ।

पसाह सक [प्र + मा-व्य] १ वस मे करना । २ सिद्ध करना । पसाहेइ (नाद, भवि) । वक्र, पसाहेमाण (श्रौप) ।
 पसाहग वि [प्रसाधक] साधक, सिद्ध करनेवाला (धर्मस २६) । तम वि [तम] १ उच्छृष्ट साधक । २ न व्याकरण-प्रसिद्ध कारक-विशेष, करण-कारक (विसे २११२) । देखो पसाहय ।
 पसाहण न [प्रसाधन] १ सिद्ध करना, साधना, 'विज्जापसाहणुज्जयविज्जाहर-सन्निरुदगतो' (सुर ३, १२) । २ उच्छृष्ट साधन, 'सन्नुत्तम माणुसत्त दुल्लहं भवसमुद्दे पसाहणु नेव्वाणस्स न निज्जेति धम्म' (स ७४४) । ३ शलकार, भूषण (शाया १, ३, से ३, ४४) । ४ भूषण आदि की सजावट, भूषणपसाहणाडबरेहि' (वज्जा ११४, सुपा ६६) ।
 पसाहण देखो पसाहग (काल) । २ सजाने-वाला (भग ११, ११) ।
 पसाहा बी [प्रशाखा] शाखा की शाखा, छोटी शाखा (शाया १, १, श्रौप मेहा) ।
 पसाहाविय वि [प्रसाधित] विभूषित कराया गया, सजवाया हुआ (भवि) ।
 पसाहि वि [प्रसाधित्] सिद्ध करनेवाला, 'अभुदयपसाहिणी' (सवीष ८, ५४) ।
 पसाह्विअ वि [प्रसाधित] अलङ्कृत किया हुआ, सजाया हुआ (से ४, ६१, पात्र) ।
 पसाहिल्ल वि [प्रशाखित्] प्रशाखा-युक्त (सुर ८, १०८) ।
 पसिअ अक [प्र + सद्] प्रसन्न होना । पसिअ (गा ३८४, ४६६, हे १, १०१) । पसियइ (सण) । सक्र पसिऊण, पसिऊण (सण, सुपा ७) ।
 पसिअ वि [प्रसूत] फैला हुआ, विस्तीर्ण, 'पसिअच्छि' (गा ६२०; ६२३) ।
 पसिअ न [दे] पुष्प-फल, सुपादी (दे ६, ६) ।
 पसिअ सक [प्र + सिच्] सेचन करना । वक्र पसिअमाण (सुर १२, १७२) ।
 पसिअि (दे) देखो पसिअि (पात्र) ।
 पसिअवअ वि [प्रसिद्धक] सीखनेवाला (गा ६२६ अ) ।

पसिअण न [प्रसदत्] प्रसन्न होना, 'अल्य-कल्लसण खणपसिअणं अलिअवअणणिवधो' (गा ६७५) ।
 पसिअिअि देखो पसिअिअि (हे १, ८६, गा १३३, गजड) ।
 पसिअण पुन [प्रश्न] १ पृच्छा, प्रश्न (सुपा ११, ४५३) । २ दर्पण आदि में देवता का आह्वान, मन्त्रविद्या-विशेष (सम १२३, वृह १) । 'विज्जा बी [विद्या] मन्त्रविद्या-विशेष (ठा १०) । 'पमिअण न [प्रश्न] मन्त्रविद्या के बल से स्वल्प आदि में देवता के आह्वान द्वारा जाना हुआ शुभाशुभ फल का कथन (पव २, वृह १) ।
 पसिअणिय वि [प्रश्नित] पूछा हुआ (सुपा १६, ६२५) ।
 पसिअि वि [प्रसिद्ध] १ विख्यात, विश्रुत (महा) । २ प्रकर्म से मुक्ति को प्राप्त, मुक्त (सिरि ५६५) ।
 पसिअिअि बी [प्रसिद्धि] १ ख्याति (हे १, ४४) । २ शका का समाधान, प्राक्षेप का परिहार (अणु, वेद्य ४६) ।
 पसिअसिअ देखो पसीस (विसे १४) ।
 पसीअ देखो पसिअ = प्र + सद् । पसीअइ, पसीअउ (कुप्र १) । सक्र पसीऊण (सण) ।
 पसीस पु [प्रशिष्य] शिष्य का शिष्य (पउम ४, ८६) ।
 पसु पुं [पशु] १ जन्तु-विशेष, सोग पूँछवाला प्राणी, चतुष्पाद प्राणि-मात्र (कुमा, श्रौप) । २ अज, वकरा (अणु) । 'भूय वि [भूत] पशु-मुख्य (सुप्र १, ४, २) । 'मेह पुं [मेध] जिसमें पशु का भोग दिया जाता हो वह यज्ञ (पउम ११, १२) । 'वइ पुं [पति] महादेव, शिव (गा १, सुपा ३१) ।
 पसुअ वि [प्रसुअ] सोया हुआ (हे १, ४४, प्राप्र, शाया १, १६) ।
 पसुअि बी [प्रसुअि] कुछ रोग विशेष, नखादि-विदारण होने पर भी अचेतनता (राज) । देखो पसुइ ।
 पसुअ (अप) देखो पसु (भवि) ।
 पसुअत्त पु [दे] वृक्ष, पेड़ (दे ६, २६) ।

पसू सक [प्र + सू] जन्म देना, प्रसव करना । वक्र पसूअमाण (गा १२३) । सक्र पसूइत्ता (राज) ।
 पसू वि [प्रसू] प्रसव-कर्ता, जन्म-दाता (मोह २६) ।
 पसूअ न [दे] पुष्प, फूल (दे ६, ६, पात्र, भवि) ।
 पसूअ वि [प्रसूत] १ उत्पन्न, जो पैदा हुआ हो (शाया-१, ७, उव, प्रासू १५६) । २ देखो पसविय (महा) ।
 पसूअण न [प्रसवत्] जन्म-दान (सुपा ४०३) ।
 पसूइ बी [प्रसूति] १ प्रसव, जन्म, उत्पत्ति (पउम २१, ३४, प्रासू १२८) । २ एक प्रकार का कुछ रोग, नखादि से विचारण करने पर भी दुःख का असवेदन, चमडी का मर जाना (पिड ६००) । 'रोग पु [रोग] रोग-विशेष (सम्मत ५८) ।
 पसूइय पु [प्रसूतिक] वातरोग विशेष (सिरि ११७) ।
 पसूण न [प्रसून] फूल, पुष्प (कुमा, सण) ।
 पसेअ पु [प्रस्वेद] पसीना (दे ६, १) ।
 पसेअि बी [प्रश्रेणि] अवान्तर श्रेणि—पक्ति (पि ६६, राय) ।
 पसेण पु [प्रसेन] भगवान् पारवनाथ के प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७८) ।
 पसेणइ पु [प्रसेनजित्] १ कुलकर-गुरु-विशेष (पउम ३, ५५, सम १५०) । २ यदुवश के राजा अन्वकवृष्णि का एक पुत्र (अत ३) ।
 पसेणि बी [प्रश्रेणि] अवान्तर जाति, 'अट्टारससेणिपसेणीओ सद्वावेइ' (शाया १, १—पत्र ३७) ।
 पसेयग देखो पसेवय (राज) ।
 पसेव सक [प्र + सेव्] विशेष सेवा करना । वक्र पसेवमाण (शु ५५) ।
 पसेवय पुं [प्रसेवक] कौथला, पैला, 'एहावि-यपसेवमोव उरसि जवति दोवि तस्स थण्य' (उवा) ।
 पसेविआ बी [प्रसेविका] पैली, कौथली (दे ५, २५) ।

परिसोण—परिहा

परिसोण वि [परिशोण] लाल रंग का (गड्ड)।

परिसोषण न [परिशोषण] सुखाना (गा ६२८)।

परिसोसिअ वि [परिशोपित] सुखाया हुआ (सण)।

परिसोह सक [परि + शोधय्] शुद्ध करना। कवक परिसोहिज्जत (सण)।

परिस्सअ सक [परि + स्वञ्ज्] आलिंगन करना। परिस्सअदि (शौ) (पि ३१५)। सक परिस्सअइअ (पि ३१५, नाट—शकु ७२)।

परिस्सत देखो परिसंत (णाय १, १, स्वन् ४०, अमि २१०)।

परिस्सज (शौ) देखो परिस्सअ। परिस्सजह (उत्तर १७६)। वक परिस्सजत (अमि १३३)। सक. परिस्सजिअ (अमि १२५)।

परिस्सम पु [परिश्रम] मेहनत (धर्मस ७८८, स्वन् १०, अमि ३६)।

परिस्सम्म अक [परि + अम्] १ मेहनत करना। २ विद्याम लेना। परिस्सम्मइ (विसे ११६७, धर्मस ७८६)।

परिस्सव सक [परि + स्तु] चूना, भरना, टपवना। वक परिस्सवमाण (जिपा १, १)।

परिस्सन पु [परिस्सव] आसव, कर्म-बन्ध का कारण (आचा)।

परिस्सह देखो परीसह (आचा)।

परिस्साइ देखो परिस्सावि = परिस्साविन् (ठा ४, ४—पत्र २७६)।

परिस्साव देखो परिसाव। सक परिस्सावि-याण (पि ५६२)।

परिस्सावि रि [परिस्साविन्] १ कर्म-बन्ध करनेवाला (भा २५, ६)। २ चूनेवाला, टपवनेवाला। ३ सुख बात को प्रकट कर देने-वाला (गच्छ १, २२, पचा १५, १४)।

परिस्सावि रि [परिश्चाविन्] सुनानेवाला (अथ ४६)।

परिह सक [परि + धा] पहिरना, पहनना। परिह (धमनि ६५०, भवि), 'सव्वगीणेषि परिह जइ उणएणमातकारे' (धमनि १४६)।

परिह पु [दे] रोष, गुस्सा (दे ६, ७)।

परिह पु [परिह] अगंला, आगल (अणु)।

परिहच्छ वि [दे] १ पट्ट, वस्त्र, निपुण (दे ६, ७६, भवि)। २ पु मनु, रोष, गुस्सा (दे ६, ७१)। देखो परिहत्थ।

परिहच्छ देखो पडिहच्छ (शौप)।

परिहट्ट सक [सुट्ट, परि + चट्टय्] मर्दन करना, चूर करना, कचरना, कुचलना। परिहट्टइ (हे ४, १२६, नाट—साहित्य ११६)।

परिहट्ट सक [वि + लुल] १ मारना, मार कर गिरा देना। २ सामना करना। ३ लूट लेना। ४ अक जमीन पर लोटना। परिहट्टइ (प्राक ७३)।

परिहट्टण न [परिहट्टण] १ श्रमिघात, आघात (से १०, ४१)। २ धर्षण, घिसना (से ८, ४३)।

परिहट्टि ली [दे] आकृष्टि, आकर्षण, खींचाव (दे ६, २१)।

परिहट्टिअ वि [सुदित] जिसका मर्दन किया गया हो वह, 'परिहट्टिओ माणो' (कुमा, पाप)।

परिहण न [दे परिधान] वस्त्र, कपडा (दे ६, २१, पाप, हे ४, ३४१, सुर १, २५, भवि)।

परिहत्थ पु [दे] १ जलजन्तु-विशेष, 'परिहत्थमच्छपुच्छच्छअज्जोडणपोच्छलतसलिलोह' (सुर १३, ४१)। 'पोत्तरिणो परिहत्थममतमच्छप्यअणोमसउणणमिहुणवि-ययिसददुत्ताइयमहुरसरताइया पासाईया' (णाय १, १३—पत्र १७६)। २ वि. वस्त्र, निपुण, 'अल्ले उणपरिहत्था सुरा' (पजम ६१, १, परह १, ३—पत्र ५५, पाप, प्राव ४)। ३ परिपूर्ण (शौप, कप्य)। देखो परिहच्छ, पडिहत्थ।

परिहर सक [परि + धृ] धारण करना। सक परिहरिअ (उत्तर १२, ६)।

परिहर सक [परि + हृ] १ त्याग करना, छोड़ना। २ करना। ३ परिभोग करना, भासेवन करना। परिहरइ (हे ४, २५६, चव, महा)। परिहरति (भा १५—पत्र ६६७)। वक परिहरत, परिहरमाण (गा १६६, राज)। सक परिहरिअ (पिंग)।

हेक परिहरित्तए. परिहरिउ (ठा ५, ३, काप्र ४०८)। क परिहरणीअ, परिहरिअव्व (पि ५७१, गा २२७, श्रौप ५६, सुर १४, ८३, सुपा ३६६, ५८८, परह २, ५)। परिहरण न [परिवरण] धारण करना (धव १)।

परिहरण न [परिहरण] १ परित्याग, वर्जन (महा)। २ भासेवन, परिभोग (ठा १०)। परिहरणा ली [परिहरणा] ऊपर देखो (पिंड १६७), 'परिहरणा होइ परिभोगो' (ठा ५, ३ टी—पत्र ३३८)।

परिहरिअ वि [परिहृत] परित्यक्त, वर्जित (महा, सण, भवि)।

परिहरिअ देखो परिहर = परि + धृ, ह।

परिहरिअ वि [परिधृत] धारण किया हुआ, 'परिहरिअकएअकुडलगडथलमएहरेसु सव-णेमु। अणुअ। समअवसेण परिहिज्जइ तालवेट्तुअं ॥' (गा ३६८ अ)।

परिहलाविअ पु [दे] जल-निर्गम, मोरो, पनाला (दे ६, २६)।

परिहव सक [परि + भू] पराभव करना। वक परिहवत (धव १)। क. परिहवियठव (उप १०३६)।

परिहव पु [परिभव] पराभव, तिरस्कार (से १३, ४६, गा ३६६, हे ३, १८०)।

परिहवण न [परिभवण] अपर देखो (स ५७२)।

परिहविअ वि [परिभूत] पराजित, तिरस्कृत (उप पु १८०)।

परिहस सक [परि + हस्] उपहास करना, हँसी करना। परिहसइ (नाट)। कर्म परिहसीअवि (शौ) (नाट—शकु २)।

परिहस्स वि [परिहस्व] अत्यन्त लघु (स ८)।

परिहा अक [परि + हा] हीन होना, कम होना। परिहाइ, परिहाइइ (धव, सुख २, ३०)। भवि परिहाइसावि (शौ) (अमि ६)। कवक परिहायन, परिहायमाण (सुर १०, ६, १२, १४, णाय १, १३, श्रौप ठा ३, ३), परिहीअमाण (पि ५४५)।

परिहा सक [परि + वा] पहिरना। भवि, परिहत्सामि (आचा १, ६, ३, १)। सक,

['वती] आठवें वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८७) ।

पहाड सक [प्र + धाटय्] इधर उधर भमाना, घुमाना । पहाडेंति (सूअनि ७० टी) ।

पहाण वि [प्रधान] १ नायक, मुखिया, मुख्य, 'अवगन्तं सव्वेवि ह पुणपहाणेवि' (सुपा ३०८), 'तत्थत्थि वण्णिपहाणे सेट्ठी वेसमणनामओ' (सुपा ६१७) । २ उत्तम, प्रशस्त, श्रेष्ठ, शोभन (सुर १, ४८, महा. कुमा. पचा ६, १२) । ३ छीन प्रकृति—सत्त्व, रज और तमोगुण की साम्यावस्था, 'ईसरेण कडे लोए पहाणाइ तहावरे' (सूअ १, १, ३, ६) । ४ पु. सचिव, मन्त्री (भवि) ।

पहाण पु [पाषाण] पत्थर (चउप्पन्न०) ।

पहाण न [प्रहाण] अपगम, विनाश (धर्मसं ८७५) ।

पहाणि छी [प्रहाणि] ऊपर देखो (उत्त ३, ७, उप ६८६ टी) ।

पहाम सक [प्र + भ्रमय्] फिराना, घुमाना । कवक पहामिज्जत (से ७, ६६) ।

पहाय देखो पहा = प्र + हा ।

पहाय न [प्रभात] १ प्रात काल, सबेरा (गडड, सुपा ३६, ६०२) । २ वि प्रभा-युक्त (से ६, ४४) ।

पहाय देखो पहाव = प्रभाव (हे ४, ३४१, हास्य १३२, भवि) ।

पहाया देखो वाहाया (अनु) ।

पहार सक [प्र + धारय्] १ चिन्तन करना, विचार करना । २ निश्चय करना । भूका पहारेत्थ, पहारेत्था, पहारिस्सु (सूअ, २, ७, ३६, औप, पि ५१७, सूअ २, १, २०) । वक पहारेमाण (सूअ २, ४, ४) ।

पहार देखो पहर = प्रहार (पाअ, हे १, ६८) ।

पहाराइया छी [प्रहारातिगा] लिपि-विशेष (सम ३५) ।

पहारि वि [प्रहारिन्] प्रहार करनेवाला (सुपा २१५, प्रासू ६८) ।

पहारिय वि [प्रहारित] जिस पर प्रहार किया गया हो वह (स ५६८) ।

पहारिय वि [प्रधारित] विकल्पित, चिन्तित (राज) ।

पहारेत्तु वि [प्रधारयित्] चिन्तन करनेवाला, 'अहाकम्मे अणवजेत्ति मण पहारेत्ता भवति' (भग ५, ६) ।

पहाव सक [प्र + भावय्] प्रभाव-युक्त करना, गौरवित करना । पहावइ (सण) । सक्र. पहाविकुण (सण) ।

पहाव (अप) अक [प्र + भू] समर्थ होना । पहावइ (भवि) ।

पहाव पु [प्रभाव] १ शक्ति, सामर्थ्य, 'तुम च तेतलिपुत्तस्स पहावेण' (णाया १, १४, अमि ३८) । २ क्रोध और दण्ड का तेज । ३ माहात्म्य, 'तायपहावओ चैव मे अविग्घं भविस्सइ त्ति' (स २६८, गजड) ।

पहावणा देखो पभावणा। (कुप्र २८४) ।

पहाविअ वि [प्रधावित] दौडा हुआ (स ५८४, गा ५३५, गजड) ।

पहाविर वि [प्रधावित्] दौडनेवाला (वजा ६२, गा २०२) ।

पहास सक [प्र + भाप्] बोलना । पहासई (सुख ४, ६), 'नाऊण चुन्निय त पहिट्ठहियया पहासई पावा' (महा) ।

पहास अक [प्र + भास्] चमकना, प्रकाशना । वक पहासंत (सार्थ ५६) ।

पहास पु [प्रहास] अट्टहास आदि विशेष हास्य (वस १०, ११) ।

पहासा छी [प्रहासा] देवी-विशेष (महा) ।

पहिअ वि [पान्थ, पथिक] मुसाफिर (हे २, १५२, कुमा. पड, उव, गजड) । 'साला छी [आला] मुसाफिरखाना, धर्मशाला (धर्मवि ७०, महा) ।

पहिअ वि [प्रथित] १ विस्तृत । २ प्रसिद्ध, विख्यात (औप) । ३ राजस-वंश का एक राजा एक लका-पति (पउम ५, २६२) ।

पहिअ वि [प्रहित] भेजा हुआ, प्रेषित (उप पु ४५, ७६८ टी, धम्म ६ टी) ।

पहिअ वि [दे] मथित, विलोडित (दे ६, ६) ।

पहिऊण देखो पहा = प्र + हा ।

पहिंसय वि [प्रहिंसक] हिंसा करनेवाला (औप ७५३) ।

पहिज्जमाण देखो पहा = प्र + हा ।

पहिट्ठ देखो पहट्ट = प्रहट्ट (औप, सुर ३, २४८, सुपा ६३, ४३७) ।

पहिर सक [परि + धा] पहिरना, पहनना । पहिरइ, पहिरति (भवि; धर्मवि ७) । कर्म पहिरिज्जइ (सवोव १४) । वक 'पहिरंत (सिरि ६८) । सक्र पहिरिउ (धम्मवि १५) । प्रयो, सक्र पहिरावेऊण, पहिराविऊण (सिरि ४५६, ७७०) ।

पहिरावण न [परिधापन] १ पहिराना । २ पहिरावन, भेंट में—इनाम में दिया जाता वस्त्रादि; गजराती मे—'पहिरामणी' (आ २८) ।

पहिराविय वि [परिधापित] पहिराया हुआ (महा, भवि) ।

पहिरिय वि [परिहित] पहिरा हुआ, पहना हुआ (सम्मत्त २१८) ।

पहिल वि [दे] पहला, प्रथम (सलि ४७; भवि, पि ४४६) । छी 'ली (पि ४४६) ।

पहिल्ल अक [दे] पहल करना, श्रागे करना । पहिल्लइ (पिंग) । सक्र पहिल्लिअ (पिंग) ।

पहिल्लिय वि [प्रघूर्णित्] खूब हिलनेवाला, अत्यन्त हिलता (सम्मत्त १८७) ।

पहिवी देखो पुहवी = पृथिवी (नाट) ।

पहीण वि [प्रहीण] १ परिशील (पिंड ६३१, भग) । २ अट्ट, स्वलित (सूअ २, १, ६) ।

पहु पु [प्रभु] १ परमेश्वर, परमात्मा (कुमा) । २ एक राज-पुत्र, जयपुर के विन्ध्यराज का एक पुत्र (वसु) । ३ स्वामी, मालिक (सुर ४, १५६) । ४ वि समर्थ, शक्तिमान, 'दाण वरिइस्स पहुस्स खती' (प्रासू ४८) । ५ अधि-पति, मुखिया, नायक (हे ३, ३८) ।

पहुइ देखो पभिइ (कप्प) ।

पहुई देखो पुहुवी (पड) ।

पहुक पु [पृथुक] खाद्य पदार्थ विशेष, निवडा (दे ६, ४४) ।

पहुच्च अक [प्र + भू] पहुँचना । पहुच्चइ (हे ४, ३६०) । वक पहुच्चमाण (औप ५०५) ।

पहुट्ट देखो पप्फुट्ट । पहुट्टइ (कप्प) ।

पहुडि देखो पभिइ (हे १, १३१, ती १०, पड) ।

पहुण पु [प्राणुण] अतिथि, मेहमान (उप ६०२) ।

पृथ्व सक [प्र + रूपय] प्रतिपादन करना ।
 पृथ्वेइ, पृथ्वैति (श्रीप, कप्प, भग) । सङ्ग.
 पृथ्वइत्ता (ठा ३, १) ।
 पृथ्वग वि [प्ररूपक] प्रतिपादक (उव, कुप्र
 १८१) ।
 पृथ्वण न [प्ररूपण] प्रतिपादन (अणु) ।
 पृथ्वणा लो [प्ररूपणा] ऊपर देखो (आच्च
 १) ।
 पृथ्विअ वि [प्ररूपित] १ प्रतिपादित,
 निरूपित (पणह २, १) । २ प्रकाशित:
 'उत्तमकचणरयणपठविग्रभासुरभूसणामासुरि-
 भगा' (प्रजि २३) ।
 परेअ पु [दे] पिशाच (दे ६, १२, पात्र,
 पड) ।
 परेण अ [परेण] वाद, अनन्तर (महा) ।
 परेयम्मण देखो परिक्कम्मण (कप्प) ।
 परेवय न [दे] पाद-पतन (दे ६, १६) ।
 परेन्ध वि [परेयुस्तन] परसो का, परसो
 होनेवाला (पिंड २४१) ।
 परो अ [पर] उच्छट, 'परोसतेहि तच्चैहि'
 (उवा) ।
 परोडय देतो परोडय (उप ७६८ टी) ।
 परोक्कन न [परोक्क] १ प्रत्यक्ष-भिन्न प्रमाण,
 'पञ्चस्वपरोक्कसाइ दुल्लेव जसो पमाणाइ' (सुर
 १२, ६०, एदि) । २ वि परोक्क-प्रमाण का
 विषय, अत्रत्यक (सुपा ६४७, हे ४, ४१८) ।
 ३ न, पीछे, आखो की ओट में, 'मम परोक्के
 कि तए अणुभूय?' (महा) ।
 परोट्ट देखो पलोट्ट = पर्यस्त (पड) ।
 परोपर] नि [परस्पर] आपस में (हे १,
 परोप्पर] ६२, कुमा, कप्प, पड) ।
 परोपआर पु [परोपकार] दूसरे की भलाई
 (नाट—मुच्य ६६८) ।
 परोवगारि वि [परोपकारिन्] दूसरे की
 भलाई करनेवाला (पठम ५०, १) ।
 परोवर देतो परोप्पर (प्राह २६, ३०) ।
 परोविण देतो परोडय (उप ७२८ टी, स
 ४८०) ।
 परोह मत्त [प्र + रुद्ध] १ उत्पन्न होना ।
 २ बटना । परोहदि (शौ) (नाट) ।
 परोह पु [प्रोह] १ उत्पत्ति (कुमा) । २
 मुक्ति । ३ मंडू, जीवोदने (हे १, ४४),
 ७२

'पुत्रलयाण परोहे रेहइ आवालपतिव्व' (घर्मवि
 १६८) ।
 परोहड न [दे] घर का पिछला आंगन, घर
 के पीछे का भाग (शेष ४१७, पात्र, गा
 ६८५ अ, वज्जा १०६, १०८) ।
 पल अक [पल्] १ जीना । २ खाना । पलह
 (पड) । देखो वल = बल् ।
 पल (अप) अक [पत्] पडना, गिरना ।
 पलइ (पिग) । वक्क पलत (पिग) ।
 पल (अप) सक [प्र + कटय] प्रकट करना ।
 पल (पिग) ।
 पल अक [परा + अय] भागना,
 'चोराण कामुयाण य
 पामरपहियाण कुक्कुडो रडइ ।
 रे पलह रमह वाहयह,
 वहह तरुइज्जए रयणी' (वज्जा
 १३४) ।
 पल न [दे] स्वेद, पसीना (दे ६, १) ।
 पल न [पल] १ एक बहुत छोटी तोल, चार
 तोला (ठा ३, १, सुपा ४३७—वज्जा—६८,
 कुप्र ४१६) । २ मास (कुप्र १८६) ।
 पलाघ सक [प्र + लड्घ] अतिक्रमण
 करना । पलघेज्जा (श्रीप) ।
 पलाघण न [प्रलङ्घन] उल्लघन (श्रीप) ।
 पलंड पु [पलमाण्ड] राज, चूना पोतने का
 काम करनेवाला कारीगर, 'पलगडे पलंडो'
 (प्राह ३०) ।
 पलाड पु [पलाण्डु] व्याज (उत्त ३६,
 ६८) ।
 पलय अक [प्र + लय] लटकना । पलवए
 (पि ४५७) । वक्क पलयमाण (श्रीप, महा) ।
 पलन वि [प्रलम्ब] १ लटकनेवाला, लटकता
 (पणह १, ४, राय) । २ लम्बा, दीर्घ (से
 १२, ५६, कुमा) । ३ पु. ग्रह-विशेष, एक
 महाग्रह (ठा २, ३) । ४ ग्रहोत्त-विशेष, ग्रहो-
 राय का आठवाँ ग्रहोत्त (सम ५१) । ५ पुन.
 आभरण-विशेष (श्रीप) । ६ एक तरह का
 घान का कोठा (वृह २) । ७ मूल (कस,
 वृह १) । ८ चक्रक पर्वत का एक शिखर
 (ठा ८—पत्र ४३६) । ९ पुन. फल (वृह
 १, ठा ४, १—पत्र १८५) १० देव-विमान-
 विशेष (सम ३८) ।

पलंविअ वि [प्रलम्बित] लटका हुआ (कप्प
 भवि, स्वण १०) ।
 पलंविअ वि [प्रलम्बित] लटकनेवाला, लट-
 कता (सुपा ११, सुर १, २४८) ।
 पलक वि [दे] लम्पट, 'इय विसयपलनकमो'
 (कुप्र ४२७, नाट) ।
 पलक्ख पु [प्लक्ष] बड का पेड (कुमा, पि
 १३२) ।
 पलाग न [पलक] फल-विशेष (आचा २, १,
 ८, ६) ।
 पलज्जण वि [प्ररज्जन] रागी, अनुराग वाला,
 'अयम्मपलज्जण —' (शाया १, १८, श्रीप) ।
 पलट्ट अक [परि + अस्] १ पलटना,
 बदलना । २ सक, पलटाना, बदलाना । पलट्टइ
 (पिग), 'कोहाइकारणेवि हु नो वयणसिदि
 पलट्टति' (सवोष १८) । सङ्ग पलट्टि (अप)
 (पिग) । देखो पलट्ट ।
 पलत्त वि [प्रलपित] १ कथित, उक्त, प्रमाण-
 युक्त (सुपा ११४, से ११, ७६) । २ न.
 प्रलाप, कथन (श्रीप) ।
 पलय पु [प्रलय] १ युगान्त, कल्पान्त-काल ।
 २ जगत् का अपने कारण में लय (से २,
 २, पठम ७२, ३१) । ३ विनाश, 'जायवजाइ-
 पलए' (ती ३) । ४ चैष्टा-क्षय । ५ छिन्नता
 (हे १, १८७) । ६ पु [कि] प्रलय-
 का सूर्य (पठम ७२, ३१) । ७ घण पु [घन]
 प्रलय का मेष (सण) । ८ लण पु [लण]
 प्रलय काल की भाग (सण) ।
 पलल न [पलल] १ तिल-चूर्ण, तिल-शो-
 (पणह २, ५, पिंड १६५) । २ मास (कुप्र
 १८७) ।
 पलल्लिअ न [प्रललित] १ प्रकीर्णित (शाया
 १, १—पत्र ६२) । २ अंग-विन्यास (पणह
 २, ४) ।
 पलव तक [प्र + लप्] प्रलाप करना, बक-
 वाद करना । पलवदि (शौ) (नाट—वेणी
 १७) । वक्क, पलवंत, पलयमाण (काल,
 सुर २, १२५, सुपा २५०, ६४१) ।
 पलवण न [प्लवन] उछलना, उचलना,
 'सपाइमवाउवहो पलवण आऊवघाओ य'
 (श्रीप ३४८) ।

पाउछण } न [प्रादुप्रोच्छन, °क] जैन
पाउछणग } मुनि का एक उपकरण, रजोहरण
(पव ११२ टी, श्लोघ ६३०, पचा १७,
१२)।

पाउकर सक [प्रादुस् + कृ] प्रकट करना।
भवि पाउकरिस्सामि (उत्त ११, १)।

पाउकर वि [प्रादुप्कर] प्रादुर्भावक (सूत्र १,
१५, २५)।

पाउकरण न [प्रादुप्करण] १ प्रादुर्भाव। २
वि. जो प्रकाशित किया जाय वह। ३ जैन
मुनि के लिए एक भिक्षा-दोष, प्रकाश कर दी
हुई भिक्षा, 'पकिरणपाउकरणापामिच्च' (परह
२, ५—पत्र १४८)।

पाउकाम वि [पातुकाम] पीने की इच्छा
वाला, 'त जो एण एविद्याए माउयाए दुद्धं
पाउकामे से ए निग्गच्छत्त' (एयाया १, १८)।

पाउक वि [दे] मार्गीकृत, मार्गित (दे ६,
४१)।

पाउकरण देखो पाउकरण (राज)।

पाउकखालय न [दे, पायुक्षालक] १
पाखाना, टट्टी, मलोत्सर्ग-स्थान, 'ठाइ चैव
एसो पाउकखालयमि रयणीए' (स २०५,
भत्त ११२)। २ मलोत्सर्ग-क्रिया, 'रयणीए
पाउकखालयनिमित्तमुट्टिओ' (स २०५)।

पाउग्ग वि [दे] सम्य, सभासद (दे ६, ४१,
सण)।

पाउग्ग वि [प्रायोग्य] उचित, लायक (सुर
१५, २३३)।

पाउग्गह पुं [पतद्ग्रह] पात्र (आचानि
२८८)।

पाउग्गिअ वि [दे] १ जुआ खेलानेवाला।
२ सोढ, सहन किया हुआ (दे ६, ४१,
पाअ)।

पाउड देखो पागय (प्राक १२, मुद्रा १२०)।

पाउड वि [प्रावृत्त] १ आच्छादित, ढका हुआ
(सूत्र १, २, २, २२)। २ वज्र, कपडा
(ठा ५, १)।

पाउण सक [प्रा + वृ] आच्छादित करना,
पहिरना। पाउणइ (पिंड ३१)। सङ्क. 'पउ
पाउणिकुण रत्ति सिग्गमो' (महा)।

पाउण सक [प्र + आप्] प्राप्त करना।
पाउणइ (भग)। पाउणति (श्रौप, सूत्र १,

११, २१)। पाउणेजा (आचा २, ३, १, ११)
भवि पाउणिस्सामि, पाउणिहिइ (पि ५३१,
उवा)। सङ्क पाउणित्ता (श्रौप, एयाया १,
१, विपा २, १, कप्प, उवा)। हेक्क. पाउणि-
त्तए (आचा २, ३, २, ११)।

पाउण (अप) देखो पावण = पावन (पिग)।

पाउत्त देखो पउत्त = प्रयुक्त (श्रौप)।

पाउप्पभाय वि [प्रादुप्पभात] प्रभा-युक्त,
प्रकाश-युक्त, 'कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए'
(एयाया १, १, भग)।

पाउप्पभव अक [प्रादुस् + भू] प्रकट
होना। पाउप्पभवइ (पव ४०)। सूका
पाउप्पभवित्था (उवा)। वक्क. पाउप्पभवत्त,
पाउप्पभवमाण (सुपा ६, कुप्र २६, एयाया
१, ५)। सङ्क पाउप्पभवित्ताण (उवा,
श्रौप)। हेक्क पाउप्पभवित्ताए (पि ५७८)।

पाउप्पभव वि [पापोद्भव] पाप से उत्पन्न
(उप ७६८ टी)।

पाउप्पभवणा स्त्री [प्रादुर्भवण] प्रादुर्भाव (भग
३, १)।

पाउप्पभुय (अप) नीचे देखो (सण)।

पाउप्पभुय वि [प्रादुर्भूत] १ उत्पन्न, सजात।
२ प्रकटित (श्रौप, भग, उवा, विपा १, १)।
पाउरण न [प्रावरण] वज्र, कपडा (सूत्रनि
८६, हे १, १७५, पचा ५, १०, पव ४,
पड)।

पाउरण न [दे] कवच, वर्म (पड)।

पाउरणी स्त्री [दे] कवच, वर्म (दे ६, ४३)।

पाउरिअ देखो पाउड = प्रावृत्त (कुप्र ४५२)।

पाउल वि [पापकुल] हलके कुल का, जघन्य
कुल में उत्पन्न, 'दवाविय पाउलाए दविण-
जाय' (स ६२६), 'कलसहपउरपाउलमगल-
सगीयपवरपेकणय' (सुर १०, ५)।

पाउल्ल न. देखो पाउआ, 'पाउल्लाई सकमट्टाए'
(सूत्र १, ४, २, १५)।

पाउव न [पादोद्] पाद-प्रक्षालन-जल,
'पाउवदाइ च एहाणुवदाइ च' (एयाया १,
७—पत्र ११७)।

पाउस पु [प्रावृप्] वर्षा ऋतु (हे १,
१६, प्राप्र, महा)। 'कीड पु [कीट]
वर्षा ऋतु मे उत्पन्न होनेवाला कीट-विशेष

(दे)। 'गम पु [गम] वर्षा प्र
(पाअ)।

पाउसिअ वि [प्रावृषिक] वर्षा-स
(राज)।

पाउसिअ वि [प्रोषित, प्रवासिन्] १
मे गया हुआ,

'तह मेहागमससियआगमणए पईए मुद्ध
मग्गमवलोयमारीउ नियइ पाउसियदइया
(सुपा ७)

पाउसिआ स्त्री [प्राद्वेषित्री] द्वेष—
से होनेवाला कर्म बन्ध (सम १०, ठा २,
भग, नव १७)।

पाउहारी स्त्री [दे पाऊहारी] मल
लानेवाली, मात-पानी ले आनेवाली
६६४ अ)।

पाए अ [दे] प्रभृति, (वहा से) शुभ क
(श्लोघ १६६, वृह १)।

पाए सक [पायय्] पिलाना। पाएइ
३, १४६)। पाएज्जाइ (महा)। वक्क. पाइ
पाययत्त (सुर १३, १३४, १२, १७१,
सङ्क. पाएत्ता (आक ३०)।

पाए सक [पाद्य्] गति कराना। पा
(हे ३, १४६)।

पाए सक [पाचय्] पकवाना। पाए
(हे ३, १४६)। कर्म. पाइज्जइ (आक
२००)।

पाएण } अ [प्रायेण] बहुत करके, प्रा
पाएण } (विसे ११६६, काल, कप्प, प्रा
४३)।

पाओ अ [प्रायस्] ऊपर देखो (आ २७)

पाओ अ [प्रातस्] प्रात काल, प्रभा
(सुज्ज १, ६, कप्प)।

पाओकरण देखो पाउकरण (पिंड २६८)।

पाओग देखो पाउग्ग (सूत्रनि ६५)।

पाओगिय वि [प्रायोगिक] प्रयत्न-जनित,
अस्वाभाविक (चिद्वय ३५३)।

पाओग्ग देखो पाउग्ग (भास १०, वर्म
११८०)।

पाओपगम न [पादपोपगम] देखो पाओ
जगमण (वव १०)।

पाओयर पु [प्रादुप्पार] देखो पाउकरण
(ठा ३, ४, पचा १३, ५)।

टी—पत्र २००) । ३ प्रायश्चित्त-विशेष (ठा ४, १) ।
 पलिउचि वि [परिकुञ्चिन्] मायावी, कपटी (वव १) ।
 पलिउचिय वि [परिकुञ्चित] १ वञ्चित । २ न माया, कुटिलता (वव १) । ३ गुरु-वन्दन का एक दोष, पूरा वन्दन न करके ही गुरु के साथ बातें करने लग जाना (पव २) ।
 पलिउजिय देखो परिउजिय (भग) ।
 पलिउन्छन्न देखो पलिओन्छन्न (आचा १, ५, १, ३) ।
 पलिउच्छूढ देखो पलिओच्छूढ (श्रीप—पृ ३० टि) ।
 पलिउजिय वि [परियोगिक] परित्तानो, जानकार (भग २, ५) ।
 पलिऊल देखो पडिऊल (नाट—विक्र १८) ।
 पलिओच्छन्न वि [पलितावच्छन्न] कर्म-वश्व, कुकर्म (आचा, १, ५, १, ३) ।
 पलिओच्छिन्न वि [पर्यवच्छिन्न] ऊपर देखो (आचा, पि २५७) ।
 पलिओच्छिन्न वि [पर्यवक्षिप्त] प्रसारित ।
 पा [प] मेपा] समय-विशेष ।
 पलिचा (शी) देखो पडिण्णा (पि २७६) ।
 पलिकुचणया देखो पलिउचणा (मम ७१) ।
 पलिमखीण वि [परिक्षीण] क्षय-प्राप्त (सूत्र २, ७, ११, श्रोप) ।
 पलिगोव पु [परिगोप] १ पक्क, कावा, कादो । २ आसक्ति (सूत्र १, २, २, ११) ।
 पलिच्छरण } वि [परिच्छन्न] १ समन्ताद् पलिच्छन्न } व्याप्त (राया १, २—पत्र ७८, १, ४) । २ निरुद्ध, रोका हुआ; 'ऐतैहि पलिच्छन्नेहि' (आचा १, ४, ४, २) ।
 पलिच्छाअ सक [परि + छाअ] ढकना, माच्छादन करना । पलिच्छाएइ (आचा २, १, १०, ६) ।
 पलिच्छद सक [परि + छिद] छेदन करना, घाटना । सक्क पलिच्छिदिय, पलिच्छिदियाण (आचा १, ४, ४, ३, १, ३, २, १) ।

पलिच्छिन्न वि [परिच्छन्न] विच्छिन्न, काटा हुआ (सूत्र १, १६, ५, उप ५८५, सुर ६, २०६) ।
 पलित्त वि [प्रदीप्त] ज्वलित (कुप्र ११६, स ७७, भग) ।
 पलिपाग देखो परिपाग (सूत्र २, ३, २१, आचा) ।
 पलिप्प अक [प्र + दीप्] जलना । पलिप्पइ (वड, प्राक १२) । वक्क, पलिप्पमाण (पि २४४) ।
 पलिवाहर } वि [परिवाह] हमेशा बाहर पलिवाहिर } होनेवाला (आचा) ।
 पलिभाग पुं [परिभाग, प्रतिभाग] १ निविभागी अश्र (कम्म ४, ८२) । २ प्रति-नियत अश्र (जीवस १५४) । ३ सादृश्य, समानता (राज) ।
 पलिभिंद सक [परि + भिंद] १ जानना । २ बोलना । ३ भेदन करना, तोडना । सक्क, पलिभिंदियाण (सूत्र १, ४, २, २) ।
 पलिभेय पुं [परिभेद] चुरना (निड्ड ५) ।
 पलिमथ सक [परि + मथ] बाँधना । पलिमथए (उत्त ६, २२) ।
 पलिमथ पुं [परि + मथ] १ निशा (सूत्र २, १, २६, निरे १२५७) । २ चा प्राय-उद्योगान (उत्त २६, २४, धम्म १०१७) । ३ विन, वाषा (सूत्र १, २, २, ११ टि) । ४ युवा व्यापार, व्यवस्था (आवक १०६, ११२) ।
 पलिमथरा पु [परिमथक] १ धान्य-विशेष, काला चना (सूत्र २, २, ६३) । २ गोल चना । ३ विलव (राज) ।
 पलिमथु वि [परिमथु] सर्वथा घातक (ठा ६—पत्र ३७१, कस) ।
 पलिमद् देखो परिमद् । परिमद्देज्जा (पि २५७) ।
 पलिमद् वि [परिमद्] मालिश करनेवाला (निड्ड ६) ।
 पलिमोक्ख देखो परिमोक्ख (आचा) ।
 पलियचण न [पर्यञ्चन] परिभ्रमण (सुर ७, २४३) । देखो परियचण ।
 पलियत पु [पर्यन्त] १ अन्त भाग (सूत्र १, ३, १, १५) । २ वि. भ्रवसानवाला, अन्त-

वाला; 'पलियंतं मग्गुयाण जीविय' (सूत्र १, २, १, १०) ।
 पलियंत न [पल्यान्तर] पत्योपम के भीतर (सूत्र १, २, १, १०) ।
 पलियस्स न [परिपार्थ] समीप, पास, निकट (भग ६, ५—पत्र २६८) ।
 पलिल देखो पलिअ = पलित (हे १, २१२) ।
 पलिव देखो पलीव । पलिवेइ (पि २४४) ।
 पलिवग देखो पलीवग (राज) ।
 पलिविअ वि [प्रदीपित] जलाया हुआ (वड; हे १, १०१) ।
 पलिविद्धस अक [परिवि + ध्वस्] नष्ट होना । पलिविद्धसिज्जा (अणु १८०) ।
 पलिसय } सक [परि + स्वञ्ज] आलिंगन पलिससय } करना, स्पर्श करना, छूना । पलिस्सएज्जा (बृह ४) । वक्क, पलिससयाणे गुरुगा दो लहुगा आणुमाईणि' (बृह ४) । हेक्क, पलिस्सइउ (बृह ४) ।
 पलिइ देखो परिइ = परिव (राज) ।
 पलिहअ वि [दे] मूख, बेवकूफ (दे ६, २०) ।
 पलिहइ ली [दे] क्षेत्र, खेत, 'नियपलिहइइ दोहिवि किसिकम्म काउमाढत्त' (सुर १५, २०१) ।
 पलिहस्स न [दे] ऊर्ध्व दाह, काष्ठ-विशेष (२६, १६) ।
 पायहाग पु [दे] ऊपर देखो (दे ३, १६) ।
 पली सक [परि +] पयचन करना, भ्रमण करना । पलेइ (सूत्र १, १०६), पतिति (सूत्र १, १, ४, ६) ।
 पली अक [प्र + ली] लीन होना, आसक्ति करना । पलिति (सूत्र १, २, २, २२) । वक्क, पलेमाण (आचा १, ४, १, ३) ।
 पलीण वि [प्रलीन] १ अति लीन (भग २५, ७) । २ सबद्ध (सूत्र १, १, ४, २) । ३ प्रलय-प्राप्त, नष्ट (सुर ४, १५४) । ४ छिपा हुआ, निलीन (सुर ६, २८) ।
 पलीमथ देखो पलिमथ (सूत्र १, ६ १२) ।
 पलीव अक [प्र + दीप्] जलना । पलीवइ (हे ४, १५२, वड) ।
 पलीव सक [प्र + दीपय] जलाना, सुलगाना । पलीवइ, पलीवइ (महा, हे १, २२१) । सक्क, पलीविऊण, पलीविअ (कुप्र १६०, गा ३३) ।

पाडहिग } वि [पाटहिक्] ढोल बजानेवाला,
पाडहिय } ढोलिया, ढोलकिया (स २१६) ।
पाडहुक वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया,
जामिनदार (पड्) ।
पाडिअ वि [पाटित] फाडा हुआ, विदारित
(स ६६६) ।
पाडिअ वि [पातित] गिरामा हुआ (पात्र,
प्रासू २, भवि) ।
पाडिअग पु [दे] विश्राम (दे ६, ४४) ।
पाडिअन्म पु [दे] पिता के घर से बहू को
पति के घर ले जानेवाला (दे ६, ४३) ।
पाडिआ देखो पाडय = पातक ।
पाडिपक्क } न [प्रत्येक] हर एक (हे २,
पाडिक्क } २१०, कप्प, पात्र, याया १,
१६, २, १, सूअनि १२१ टी, कुमा), 'एने
जोवे पाडिक्कण सरीरण' (ठा १—पत्र
११६) ।
पाडितिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष
(राय ५४) ।
पाडिचरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना
(उप पृ ३४६) ।
पाडिच्छय वि [प्रतीपसक] ग्रहण करनेवाला
(सुख २, १३) ।
पाडिज्जत देखो पाड = पातय ।
पाडिपह न [प्रतिपथ] अभिमुख, सामने
(सूअ २, २, ३१) ।
पाडिपहिअ देखो पडिपहिअ (सूअ २, २,
३१) ।
पाडिपिद्धि ली [दे] प्रतिस्पर्धा (पड्) ।
पाडिपवण पु [पारिप्लवक] पक्षि-विशेष
(पत्रम १४, १८) ।
पाडिपफद्धि वि [प्रतिस्पर्धिन्] स्पर्धा करने-
वाला (हे १, ४४, २०६) ।
पाडियतिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष
(राज) ।
पाडियक्क देखो पाडिक्क (श्रौप) ।
पाडिवय वि [प्रातिपद्] १ प्रतिपत्-सबन्धी,
पडवा तिथि का, 'जह चदो पाडिवधो पडिपुत्रो
सुक्कपक्कम्मि' (उवर ६०) । २ पृं एक
आवी जैन आचार्य (विचार ५०६) ।
पाडिचया ली [प्रतिपत्] तिथि-विशेष, पक्ष
को पहली तिथि, पडवा (सम २६, याया १,
१०, हे १, १५, ४४) ।

पाडिवेसिय वि [प्रातिवेरिमक] पडोसी ।
ली 'या (सुपा ३६४) ।
पाडिसार पु [दे] १ पटुता, निपुणता । २
वि पटु, निपुण (दे ६, १६) ।
पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि = प्रतिसिद्धि (हे
१, ४४, प्राप्र) ।
पाडिसिद्धि ली [दे] १ स्पर्धा (दे ६, ७७,
कप्प, कुप्र ४६) । २ समुदाचार । ३ वि
सदश, तुल्य (दे ६, ७७) ।
पाडिसिरा ली [दे] खलीन-युक्ता (दे ६, ४२) ।
पाडिस्सुइय न [प्रातिश्रुतिक] अभिनय का
एक भेद (राज) ।
पाडिहच्छी } ली [दे] शिरो-माल्य, मस्तक-
पाडिहत्थी } स्थित पुष्पमाला (दे ६, ४२,
राज) ।
पाडिहारिय वि [प्रातिहारिक] वापस देने
योग्य वस्तु (विसे ३०५७, श्रौप, उवा) ।
पाडिहेर न [प्रातिहार्य] १ देवता-इत प्रती-
हार-कर्म, देवकृत पूजा विशेष (श्रौप, पव
३६), 'इय सामइए भावा इहइपि नागवत्त-
नरनाहो । जाओ सपाडिहेरो' (सुपा ५४४) ।
२ देव-सान्निध्य (भक्त ६६), 'बहूण सुरेहि
कय पाडिहेर' (धु ६४, महा) ।
पाडी ली [दे] मंस की बखिया, पाडी या
पडिया गुजराती में 'पाडी' (गा ६५) ।
पाडुकी ली [दे] बणी—जलमवाले की
पालकी (दे ६, ३६) ।
पाडुगोरि वि [दे] १ विगुण, गुण-रहित ।
२ मद्य मे आसक्त । ३ ली मजबूत वेष्टन-
वाली बाढ, 'पाडु गोरि च कुतिदीर्घ यस्या
विवेष्टन परित' (दे ६, ७८) ।
पाडुक्क पु [दे] समालम्भन, चन्दन आदि का
शरीर मे उपलेप । २ वि पटु, निपुण (दे ६,
७६) ।
पाडुञ्चिय वि [प्रातीतिक] किसी के आश्रय
से होनेवाला, आपेक्षिक । ली 'या (ठा २,
१, नव १८) ।
पाडुञ्ची ली [दे] तुरग-मएहन, घोडे का
सिंगार (दे ६, ३६, पात्र) ।
पाडुहुअ वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया, जामिन-
दार (दे ६, ४२) ।
पाडेक्क देखो पाडिक्क (सम्म ५५) ।

पाडोस पु [दे] पडोस, प्रातिवेरिमक्ता (था
२७) ।
पाडोसिअ वि [दे] पडोसी, पडोसिया (शिरि
३१२, था २७, सुपा ५५२) ।
पाड सक [पाठय] पढाना, अध्ययन कराना ।
पाडइ, पाडेइ (प्राक् ६०, प्राप्र) । कर्म पाडिअ
(प्राप्र) । सक पाडिऊण, पाडेऊण (प्राक्
६१) । हेक्क पाडिअ, पाडेअ (प्राक् ६१) ।
क. पाडणिज्ज, पाडिअन्व, पाडेअन्व
(प्राक् ६१) ।
पाड पु [पाठ] १ अध्ययन, पठन (प्रोपभा
७१, विसे १३८४, सम्मत १४०) । २ शाळ,
आगम । ३ शाळ का उल्लेख, 'पाडो ति वा
सथ ति वा एगट्टा' (आइ १) । ४ अध्यापन,
शिक्षा (उप पु ३०८, विसे १३८४) ।
पाड देखो पाडय = पातक (था ६३ टी) ।
पाडतर न [पाठान्तर] भिन्न पाठ (श्रावक
३११) ।
पाडग वि [पाठक] १ उच्चारण करनेवाला,
'पडिय मगलपाडगेहि' (कुप्र ३२) । २
अध्यापी, अध्ययन करनेवाला । ३ अध्यापन
करनेवाला, अध्यापक, 'वत्थुपाडगा', 'सुमिण
पाडगाण', 'सकत्तरासुमिणपाडगाण' (धर्मवि
३३, याया १, १, कप्प) ।
पाडण न [पाठन] अध्यापन (उप पु १२८,
प्राक् ६१, सम्मत १४२) ।
पाडणया ली [पाठना] ऊपर देखो (पत्रभा
४) ।
पाडय देखो पाडग (कप्प, स ७, याया १,
१—पत्र २०, महा) ।
पाडव वि [पार्थिव] पृथिवी का विकार,
पृथिवी का, 'पाडव सरीर हिच्चा' (उत्त ३,
१३) ।
पाडा ली [पाठा] वनस्पति-विशेष, पाड, पाठ
का शाख (परण १७) ।
पाडाव सक [पाठय] पढाना, अध्यापन
करना । पाडावेइ (प्राप्र) । सक पाडाविऊण,
पाडावेऊण (प्राक् ६१) । हेक्क पाडाविर्त्त,
पाडावेअ (प्राक् ६१) । क पाडावणिज्ज,
पाडाविअन्व (प्राक् ६१) ।
पाडावअ वि [पाठक] अध्यापक (प्राक् ६०) ।
पाडावण न [पाठन] अध्यापन (प्राक् ६१) ।

°नाह पु [°नाथ] पल्लो का स्वामी (सुपा ३५१, सुर २, ३३)। वइ पु [°पति] वही अर्थ (सुर १, १६१, सुपा ३५१)।

पल्लिअ वि [दे] १ आक्रान्त (निचू २)। २ अस्त (निचू १)। ३ प्रेरित, 'पल्लट्टा पल्लि-आहट्टव्व' (घण ४७)।

पल्लित्त वि [दे] पर्यस्त (पड्)।

पट्टो देखो पल्लि (गज ५५ १०, ३६, सुर २, २०४)।

पट्टोण वि [प्रलीन] विशेष लीन, भुक्तिदिग्गल्लोणे पल्लोणे चिट्ठइ' (भग २५, ७, कम्म)।

पट्टोट्टोर्जाह [दे] देखो पल्लोट्टोर्जाह (पड्)।

पल्लहत्थ देखो पल्लोट्ट + परि + अस्। पल्लहत्थइ (हे ४, २००)। वक्क पल्लहत्थत (से १०, १०, २, ५)। कवक्क पल्लहत्थत (से ८, ८, ३, ११, ६६)।

पल्लहत्थ सक [वि + रेच्य] बाहर निकालना। पल्लहत्थइ (हे ४, २, २)।

पल्लहत्थ देखो पल्लोट्ट = पर्यस्त, 'करतल-अम्मडे' (सुप्र २, २, १६, हे ४, २५८)।

पल्लहत्थण न [प्रयत्न] केंद्र देना, पल्लेपण, 'पल्लहत्थणं सुवरपल्लेपणं' (सुप्र २, २, १६, हे ४, २५८)।

पल्लहत्थरण देखो पल्लहत्थरण (से ११, १०८)।

पल्लहत्थाविअ वि [चिरेचित्त] बाहर निकलना वा ह्रास (कुमा)।

पल्लहत्थिअ देखो पल्लोट्ट = पर्यस्त (से ७, २०, णाय १, ४६—पत्र २१६, सुपा ७६)।

पल्लहत्थिया श्री [पर्यस्तिका] आमन-विशेष— १ दाना जानु खडा कर पीठ के साथ चादर लपटवर बँटना (पव ३८)। २ जवा पर वक्क लपटवर बँटना। ३ जवा पर पवि रखकर बँटना (जत १, १६)। °पट्टट्ट पुं [°पट्ट] दोग-भट्ट (राज)।

पल्लह्य } पु [पह्ल्य] १ अनाथ देश-
पल्लह्व } विशेष (कन्न कुप्र ६७)। २ पुत्री पण्य देना वा निवानी (ना ३, २—पा १७०, प्रत)। श्री °वी, °विया (पि ३३०, श्री ८, णाय १, १—पत्र ३७, २क)।

पल्लहवि पुंजी [दे पह्लवि] हाथी की पीठ पर बिछाया जाता एक तरह का कपडा, 'पल्लहवि हत्थथरण' (पव ८४)।

पल्लहविया } देखो पल्लह्व।
पल्लहवी }

पल्लहाय सक [प्र = ह्ल्याद्] आनन्दित करना, खुशी करना। पल्लहायइ (सबोध १२)। वक्क पल्लहायत (उव, सुर ३, १२१)। क्क देखो पल्लहायणिज्ज।

पल्लहाय पुं [प्रह्ल्याद्] १ आनन्द, खुशी (कुमा)। २ हिररयकशिपु नामक दैत्य का पुत्र (हे २, ७६)। ३ आठवाँ प्रतिवासुदेव राजा (पउम ५, १५६)। ४ एक विद्याधर नरेश (पउम १५, ५)।

पल्लहायण न [प्रह्ल्यादन] १ चित्त-प्रसन्नता, खुशी (जत २६, १७)। २ वि आनन्द-दायक (सुपा ५०७)। ३ पु. रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३६)।

पल्लहायणिज्ज वि [प्रह्ल्यादनीय] आनन्द-जनक (णाय १, १—पत्र १३)।

पल्लहीय पु. व [प्रह्लोक्क] देश-विशेष (पउम ६८, ६६)।

पत्र सक [पा] पीना। क्क 'अरसमेहा अ-पवणिज्जो दग्गा वास नानिहित्ति' (भग ७, ६—पत्र ३)।

पव अक [प्लु] १ फरकना। २ चले, उछल कर जाना। ३ तेरना। पनेज्ज (सुप्र १, १, २, ८)। वक्क पवत, पवमाण (से ५, ३७, आचा २, ३, ४)। हेक्क पविड (सुप्र १, १, ४, २)।

पव पु [प्लव] १ पुर (कुमा)। २ उछलन, कूदना। ३ तरण, तेरना। ४ भेक, मेढक। ५ वानर, वन्दर। ६ चारडाल, डोम। ७ जल-काक। ८ पाकुड का पेड़। ९ कारण्डव पक्षी। १० शब्द, आवाज। ११ रिपु, दुश्मन। १२ भेप, भेडा। १३ जल-कुक्कुट। १४ जल, पानी। १५ जलचर पक्षी। १६ नौका, नाव (हे २, १०६)।

पव ज्ञोन [प्रपा] पानीयशाला, प्याऊ, 'सहाणि वा पवाणि वा' (आचा २, २, १०)।

पवग पु [प्लवङ्ग] १ वानर (से २, ४६, ४, ४७)। २ वानर-वशीय मनुष्य। °नाह पु

[°नाथ] वानर-वशीय राजा, बाली (पउम ६, २६)। °वइ पुं [°पति] वानरराज (पि ३७६)।

पवगम पु [प्लवंगम] १ वानर (पाम्म, से ६, १६)। २ छन्द-विशेष (पिंग)।

पवच पुं [प्रपञ्च] १ विस्तार (उप ५३० टी, श्रौप)। २ ससार (सुप्र १, ७, उव)। ३ प्रतारण, ठगाई (उव)।

पवंचण न [प्रपञ्चन] विप्रतारण, वञ्चना, ठगाई (पएह १, १—पत्र १४)।

पवचा ली [प्रपञ्चा] मनुष्य की दश दशाश्री मे सातवी दशा—६० से ७० वर्ष की अवस्था (ठा १०, तडु १६)।

पवंचिअ वि [प्रपञ्चित] विस्तारित (श्रा १४, कुप्र ११८)।

पवच्छ सक [प्र + वाञ्छ्] वाञ्छना, अभिलाषा करना। वक्क पवच्छमाण (उप ५ १८०)।

पवत देणो पव = प्लु।

पवंपुल पुंन [दे] मच्छी पकडने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

पवक वि [प्लवक] १ उछल-कूद करनेवाला। २ तेरनेवाला (पएह १, १ टी—पत्र २)। ३ पु. पक्षी। ४ देवजाति-विशेष, सुपणकुमार नामक देव-जाति (पएह २, ४—पत्र १३०)।

पवग देखो पवक (पएह १, ४, न्य, श्रौप)।

पवज्ज सक [प्र + पट्ट] स्वीकार करना। पवज्जइ, पवज्जिज्जा (भवि, हित २०)। भवि पवज्जिहिस्सि (गा ६६१)। वक्क पवज्जत (श्रा २७)। सक पवज्जिय (मोह १०)। क्क पवज्जियव्व (पंचा १६)।

पवज्जण न [प्रपदन्] स्वीकार, अगीकार (स २७१, पचा १४, ८, आवाक १११)।

पवज्जा देखो पव्वज्जा (महानि ४)।

पवज्जिय वि [प्रपन्न] स्वीकृत, अगीकृत (वर्मवि ५३, कुप्र २६५, सुपा ४०७)।

पवज्जिय वि [प्रवादित] जो बजने लगा हो (स ७५६)।

पवज्जिय देखो पव्वज्ज।

पवट्ट अक [प्र + वृत्] प्रवृत्ति करना। पवट्टइ (महा)।

°ट्टवण, °ठवण न [°स्थापन] जैन मुनियो का एक उपकरण, पात्र रखने का बल्ल-खण्ड (विसे २५५२ टी, श्लो ६६८)। °णिल्लोग, °निल्लोग पुं [°निर्योग] जैन साधु का यह उपकरण-समूह—पात्र, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, पात्रकेशरिका, पटल, रजल्लारण और गुच्छक (पिंड २६, बृह ३, विसे २५५२ टी)। °पडिमा स्त्री [°प्रतिमा] पात्र-सवन्धी अभिग्रह—प्रतिज्ञा-विशेष (ठा ४, ३)। देखो पाठ = पात्र।

पाय (अप) देखो पत्त = प्राप्त (पिण)।
पाय° अ [प्रायस्] प्राय, बहुत करके, 'पायप्पाण वणेइ त्ति' (पिंड ४४३)।
°पाय पु व [°पाद] पूज्य, 'सधुआ अजिअ-सत्तिपायया' (अजि ३४)।
पायए देखो पा = पा।
पाप देखो पाय° (स ७६१, सुपा २८, ५६६, श्रावक ७३)।
पाय अ [प्रातस्] प्रमात (सूअ १, ७, १४)।
पायगुह पु [पादाङ्गुष्ठ] पैर का अग्रगण्य (शाया १, ८)।
पायजलि पुं [पातजल] पतजलिकृत शास्त्र, पातजल योग-सूत्र (एदि १६४)।
पायत न [पादान्त] गीत का एक भेद, पाद-वृद्धगीत (राय ५८)।
पायट्टय पु [पादान्दुफ] पैर बंधने का नाष्ठनय उपकरण (विपा १, ६—पत्र ६६)।
पायरु देवा पायय = पातक (वव १)।
पायफ देवो पाइफ (सम्मत्त १७६)।
पायन्निपण न [प्रादक्षिण्य] प्रदक्षिणा (पउस ३२, ६२)।
पायग न [पातक] पाप (श्रावक २४८)।
पायन्दिउत्त पुन [प्रायश्चित्त] पाप-नाशन करने, पाप-जय करनेवाला कर्म, 'पारचिओ नाम पायन्दिउत्तो सवुत्तो' (सम्मत्त १४४, उरा, श्रौप, नउ २६)।
पायउ देवा पागड = प्र + कटय्। पायडइ (नरि)। यह पायडत (सुपा २५६)। यह पागडिउत्त (गा ६=५)। इह पायडिउत्तं (कुप्र १)।

पायड न [दे] अणण, श्रौगण (दे ६, ४०)।
पायड देखो पागड = प्रकट (हे १, ४४, प्राप्र, श्लो ७३, जी २२, प्रासु ६४)।
पायड देखो पागड = प्राकृत, 'अहपि दाव दिअसे एअर परिअमिअ अलद्धभोआ पाअ-डगणिआ विअ रत्ति पस्सदो सडु आअच्छामि' (अवि २६)।
पायड वि [प्रावृत] आच्छादित (विसे २५७६ टी)।
पायडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त किया हुआ (कुप्र ४, से १, ५३, गा १६६, २६०, गउड, स ४६८)।
पायडिल्लि वि [प्रकट] खुला (वज्जा १०८)।
पायण न [पायन] पिलाना, पान कराना (शाया १, ७)।
पायत्त न [पादात्] पदाति-समूह, प्यादो का लश्कर (उत्त १८, २, श्रौप, कम्प)। °णिय न [°नीक] पदाति सैन्य (पि ८०)।
पायपुञ्जण न [पादपुञ्जण] पात्र-विशेष, शराव, सकोरा।
पायप्पहण पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ६, ४५)।
पायय न [पातक] पाप (अच्छु ४३)।
पायय देखो पाव = पाप (पाअ)।
पायय देखो पागय (हे १, ६७)।
पायय देखो पायव (से ६, ७)।
पायय देखो पायय = पावक (अभि १२५)।
पावय देखो पाय = पाद (कम्प)।
पायरास पु [प्रातराश] प्रात काल का भोजन, जलपान, जलखवा (आचा, शाया १, ८)।
पायल न [दे] चक्षु, श्रांल (दे ६, ३८)।
पायव पु [पादप] वृक्ष, पेड (पाअ)।
पायव्व देखो पा = पा।
पायस पुन [पायस] दूध का मिश्रण, खीर, 'पायमो खीरो' (पाअ, सुपा ४३८)।
पायसो अ [प्रायशस्] प्राय, बहुत कर (उप ४४६, पचा ३, २७)।
पायार पु [प्राकार] किला, कोट, दुर्ग (पाअ, हे १, २६८, कुमा)।
पायाल न [पाताल] रसा-तल, अधो भुवन (हे १, १८०, पाअ)। °कलशा पु [°कलशा]

समुद्र के मध्य में स्थित कलशाकार वस्तु (अणु)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (पउस ४५, ३६)। °मदिर न [°मन्दिर] पाताल-स्थित गृह (महा)। °हर न [°गृह] वही अर्थ (महा)।
पायाल न [पाददल] पादात्य सेन्य, पैदल सैनिक (चउपपन्न० पत्र० १८५)।
पायालकारपुर न [पातालकङ्कापुर] पाताल-लका, रावण की राजधानी, 'पायालकारपुर सिअ पत्ता भउअविग्गा' (पउस ६, २०१)।
पायावच्च न [प्राजापत्य] प्रहोरात्र का चौद-हवां मुहूर्त (सम ५१)।
पायाविय वि [पायित] पिलाया हुआ (पउस ११, ४१)।
पायाहिण न [प्रादक्षिण्य] १ वेष्टन (पव ६१)। २ दक्षिण की ओर, 'पायाहिलेण तिहि पतिआहि भाएह लडिपए' (सिरि १६६)।
पायाहिणा देखो पयाहिणा, 'पायाहिए करितो' (उत्त ६, ५६, सुख ६, ५६)।
पार अक [शक्] सकना, करने में समर्थ होना। पारइ, पारेइ (हे ४, ८६, पाअ)। वड्ड. पारत (कुमा)।
पार सक [पारय] पार पहुँचना, पूर्ण करना। पारेइ (हे ४, ८६, पाअ) हेड्ड पारित्तए (भग १२, १)।
पार पुन [पार] १ तट, किनारा (आचा)। २ पर्ला, किनारा, 'परतीर पार' (पाअ), 'किह म्ह होही भवजलहिपार' (निसा ५)। ३ परलोक, आगामी जन्म। ४ मनुष्य-लोक-भिन्न नरक आदि (सूअ १, ६, २८)। ५ मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, 'पार पुणएणुत्तरं बुहा वित्ति' (बृह ४)। °ग वि [°ग] पार जाने-वाला (श्रौप, सुपा २५४)। °गय वि [°गत] १ पार-प्राप्त (भग, श्रौप)। २ पुं. जिन-देव, भगवान् अहंत् (उप १३२ टी)। °गामि वि [°गामिन्] पर पहुँचनेवाला (आचा, कम्प, श्रौप)। °पापाग न [°पापक] पेय द्रव्य-विशेष (शाया १, १७)। °विउ वि [°विड] पार को जाननेवाला (सूअ २, १, ६०)। °भोय वि [°भोग] पार-प्रापक (कम्प)।

पवरग न [दे. प्रवराङ्ग] सिर, मस्तक (दे ६, २८)।

पवरपुडरीय पुन [प्रवरपुण्डरीक] एक देव-विमान (आचा २, १५, २)।

पवरा स्त्री [प्रवरा] भगवान् वासुपुत्र्य की शासनदेवी (पव २७)।

पवरिस सक [प्र + वृप्] वरसना; वृष्टि करना। पवरिसइ (भवि)।

पवल देखो पवल (कप्प, कुप्र २४७)।

पवस अक [प्र + वस्] प्रयाण करना, विदेश जाना। वरू पवसत (से १, २४, गा ६४)।

पवसण न [प्रवसन] प्रवास, विदेश यात्रा, मुसाफिरी (स १६६, उप १०३१ टी)।

पवसिअ वि [प्रोपित] प्रवास मे गया हुआ (गा ४५, ८४०, सुर ५, २११, सुपा ४७३)।

पवह अक [प्र + वह] १ वहना। २ सक टपकना, झरना। पवहइ (भवि, पिग)। वरू पवहत (सुर २, ७५)। सक, पवहिता (सम ८४)।

पवह सक [प्र + हन्] मार डालना। वरू पिच्छउ पवहत मज्ज करयल कलिय-करवाल' (सुपा ५७२)।

पवह वि [प्रवह] १ बहनेवाला। २ टपकने-वाला, चुनेवाला, अद्दु खालीशो अमभतरप्प-वहाआ' (विपा १, १—पत्र १६)।

पवह पु [प्रवाह] १ स्रोत, बहाव, जल-धारा (गा ३६६, ४४१, कुमा)। २ प्रवृत्ति। ३ व्यवहार। ४ उत्तम अश्व (हे १, ६८)। ५ प्रमान (राज)।

पवहण पुन [प्रवहण] १ नोका, जहाज (साया १, २, पि ३५७)। २ गाडी आदि वाहन, 'जुगगया गिल्लिगया पिल्लिगया पवहणया' (श्रीप, वमु, चार ७०)।

पवशअ वि [दे] प्रवृत्त (दे ६, ३४)।

पवहायि वि [प्रवाहित] बहाया हुआ (भवि)।

पवाग्गे [प्रवा] जनदान स्थान, पानी-खाना, प्याऊ (भोग, पवह १, ३, मत्ता)।

पवाड वि [प्रवादिन्] १ वाद करनेवाला, यात्री। २ दायनिक (सुम १, १, १, चउ ४७)।

पवाइअ वि [प्रवात्] बहा हुआ (वायु), 'पवाइया कलववाया' (स ६८६, पउम ५७, २७, साया १, ८, स ३६)।

पवाइअ वि [प्रवादित] बजाया हुआ (कप्प, श्रीप)।

पवाण (अप) देखो पमाण = प्रमाण (कुमा, पि २५१, भवि)।

पवाड सक [प्र + पातय] गिराना। वरू पवाडेमाण (भग १७, १—पत्र ७२०)।

पवादि देखो पवाइ (धर्मस १३३)।

पवाय अक [प्र + वा] १ सुख पाना। २ वहना (हवा का)। ३ सक गमन करना। ४ हिंसा करना। पवाअइ (प्राक ७६)। वरू पवायत (आचा)।

पवाय पु [प्रवाद] १ किंवदन्ती, जनश्रुति (सुपा ३००, उप पृ २६)। २ परपरा-प्राप्त उपदेश। २ मत, दर्शन, 'पवाएण पवाय जाणेजा' (आचा)।

पवाय पु [प्रपात] १ गर्त, गड्ढा (साया १, १४—पत्र १६१, दे १, २२)। २ ऊँचे स्थान से गिरता जल-समूह (सम ८४)। ३ तट-रहित निराधार पर्वत-स्थान। ४ रात मे पडनेवाली घाट, धारा (राज)। ५ पतन (ठा २, ३)। °दह पु [°द्रह] वह कुएड, जहाँ पर्वत पर से नदी गिरती हो (ठा २, ३—पत्र ७३)।

पवाय पु [प्रवात्] १ प्रकृत पवन (पवह २, ३)। २ वि. बहा हुआ (पवन) (सक्ति ७)। ३ पवन-रहित (वृह १)।

पवायग वि [प्रवाचक] पाठक, अभ्यापक (विसे १०६२)।

पवायण न [प्रवाचन] प्रपठन, अभ्ययन (सम्मत्त ११७)।

पवायणा स्त्री [प्रवाचना] ऊपर देखो (विसे २८३५)।

पवायय देखो पवायग (विसे १०६२)।

पवाल पुन [प्रवाल] १ नवाकुर, किसलय (पाम ३४१, साया १, १, सुपा १२६)। २ मूँगा, चिद्रुम (पाम, कप्प)। °मत, °वत वि [°वत्] प्रवालवाला (साया १, १, श्रीप)।

पवाल्लिअ वि [प्रपाल्लित] जो पालने लगा हो वह (उप ७२८ टी)।

पवास पुं [प्रवास] विदेश-गमन, परदेश-यात्रा (सुपा ६५७, हेका ३७, सिरि ३५६)।

पवासि } वि [प्रवासिन्] मुसाफिर (गा पवासु } ६८, षड्, पि ११८, हे ४, ३६५)।

पवाह सक [प्र + वाहय] बहाना, चलाना। पवाहइ (भवि)। भवि. पवाहेहिति (विसे २४६ टी)।

पवाह देखो पवह = प्रवाह (हे १, ६८, ८२, कुमा, साया १, १४)।

पवाह पुं [प्रवाध] प्रकृत पीडा (विपा १, ६—पत्र ६०)।

पवाहण न [प्रवाहन] १ जल, पानी (आवम)। २ बहाना, बहन कराना (वेइय ५२३)।

पवि पु [पवि] वज्र, इन्द्र का अन्न-विशेष (उप २११ टी, सुपा ४६७, कुमा, धर्मवि ८०)।

पविअभिअ वि [प्रविज्जम्भित] प्रोक्षित, समुत्पन्न (गा ५३६ अ)।

पविआ स्त्री [दे] पक्षी का पान-पान (दे ६, ४, ८, ३२, पाम)।

पविइण वि [प्रवितोर्ण] दिया हुआ (श्रीप)।

पविइण } वि [प्रविकीर्ण] १ व्याप्त पविइण } (श्रीप, साया १, १ टी—पत्र ३)। २ विक्षिप्त, निरस्त (साया १, १)।

पविकरथ सक [प्रवि + कथ्] आत्म-श्लाघा करना। पविकरथई (सम ५१)।

पविकसिय वि [प्रविकसित] प्रकर्ष से विकसित (राज)।

पविकिर सक [प्रवि + कृ] फेंकना। वरू पविकिरमाण (ठा ८)।

पविकिअ वि [प्रवीक्षित] निरीक्षित, अवलोकित (स ७४६)।

पविकिअर देखो पविकिर, 'नाविअजणे य मंड पविकिअरते समुद्धम्मि' (सुर ११, २०६)।

पविग वि [दे] विस्मृत (षड्)।

पविचरिय वि [प्रविचरित] गमन-द्वारा सर्वत्र व्याप्त (राय)।

°ट्टवण, °ठवण न [°स्थापन] जैन मुनियो का एक उपकरण, पात्र रखने का बल्ल-खण्ड (विसे २५५२ टी, श्लो ६६८)। °णिल्लोग, °निल्लोग पुं [°नियोग] जैन साधु का यह उपकरण-समूह—पात्र, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, पात्रकेशरिका, पटल, रजज्जाण और गुच्छक (पिंड २६, बृह ३, विसे २५५२ टी)। °पडिमा स्त्री [°प्रतिमा] पात्र-सबन्धी अभिग्रह—प्रतिज्ञा-विशेष (ठा ४, ३)। देखो पाद = पात्र।

पाय (अप) देखो पत = प्राप्त (पिप)।

पाय° अ [प्रायस्] प्राय, बहुत करके, 'पायप्पाण वणेइ ति' (पिंड ४४३)।

°पाय पु व [°पाद] पूज्य, 'सधुआ अजिअ-सतिपायया' (अजि ३४)।

पायए देखो पा = पा।

पाप देखो पाय° (स ७६१, सुपा २८, ५६६, श्रावक ७३)।

पाय अ [प्रातस्] प्रमात (सूअ १, ७, १४)।

पायगुट्ट पु [पादाङ्गुष्ठ] पैर का अग्रभाग (छाया १, ८)।

पायजलि पुं [पातञ्जल] पतञ्जलिकृत शास्त्र, पातञ्जल योग-सूत्र (एदि १६४)।

पायत न [पादान्त] गीत का एक भेद, पाद-वृद्धगीत (राय ५८)।

पायट्टय पु [पादान्दुक] पैर बाँधने का काष्ठनय उपकरण (निपा १, ६—पत्र ६६)।

पायक देखो पायत्र = पातक (वव १)।

पायफ देखो पाइफ (सम्मत्त १७६)।

पायन्निरण न [प्रादक्षिण्य] प्रदक्षिणा (पउस ३२, ६२)।

पायग न [पातक] पाप (श्रावक २८८)।

पायन्दिअत्त पुन [प्राग्यन्दिअत्त] पाप-नाशन कर्म, पाप-जय करनेवाला कर्म, 'पारचिओ नाम पायन्दिअतो संयुतो' (सम्मत्त १४४, उवा, श्लो १, नउ २६)।

पायउ न्ना पागड = प्र + कट्। पायड्ड (भरि)। यठ पायडन (सुपा २५६)। यउ पायडिअत्त (ता ६८५)। हेठ पायडिउ (कुप्र १)।

पायड न [दे] अणण, आंगन (दे ६, ४०)।

पायड देखो पागड = प्रकट (हे १, ४४, प्राप्र, श्लो ७३, जी २२, प्रासु ६४)।

पायड देखो पागड = प्राकृत, 'अहपि दाव दिअसे एअर परिअमिअ अलद्धभोआ पाअ-डगणिआ विअ रत्ति पस्सदो सडु आअच्छामि' (अवि २६)।

पायड वि [प्रावृत] आच्छादित (विसे २५७६ टी)।

पायडिअ वि [प्रकटित] व्यक्त किया हुआ (कुप्र ४, से १, ५३, गा १६६, २६०, गउड, स ४६८)।

पायडिल्ल वि [प्रकट] खुला (वज्जा १०८)।

पायण न [पायन] पिलाना, पान कराना (छाया १, ७)।

पायत्त न [पादात्] पदाति-समूह, प्यादो का लक्षक (उत्त १८, २, श्रौप, कप्प)। °णिय न [°नीक] पदाति सैन्य (पि ८०)।

पायपुञ्जण न [पादपुञ्जण] पात्र-विशेष, शराव, सकोरा।

पायप्पहण पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ६, ४५)।

पायय न [पातक] पाप (अच्छु ४३)।

पायय देखो पाव = पाप (पाअ)।

पायय देखो पागय (हे १, ६७)।

पायय देखो पायव (से ६, ७)।

पायय देखो पावय = पावक (अभि १२५)।

पावय देखो पाय = पाद (कप्प)।

पायरास पु [प्रातराश] प्रात काल का भोजन, जलपान, जलखवा (आचा, छाया १, ८)।

पायल न [दे] चक्षु, आँख (दे ६, ३८)।

पायव पु [पादप] वृक्ष, पेड़ (पाअ)।

पायव्व देखो पा = पा।

पायस पुन [पायस] दूध का मिश्रण, क्षीर, 'पायसो क्षीरो' (पाअ, सुपा ४३८)।

पायसो अ [प्रायशस्] प्राय, बहुत कर (उप ४४६, पत्ता ३, २७)।

पायार पु [प्राहार] किला, कोट, दुर्ग (पाअ, हे १, २६८, कुमा)।

पायाल न [पाताल] रसा-तल, अधो भुवन (हे १, १८०, पाअ)। °कलशा पु [°कलशा]

समुद्र के मध्य में स्थित कलशाकार वस्तु (अणु)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (पउस ४५, ३६)। °मदिर न [°मन्दिर] पाताल-स्थित गृह (महा)। °हर न [°गृह] वही अर्थ (महा)।

पायाल न [पाददल] पादात्य सेन्य, पैदल सैनिक (अउप्पन्न० पत्र० १८५)।

पायालकारपुर न [पाताललङ्कापुर] पाताल-लका, रावण की राजधानी, 'पायालकारपुर सिग्घ पत्ता भवन्विग्गा' (पउस ६, २०१)।

पायावच्च न [प्राजापत्य] प्रहोरात्र का चौद-हवाँ मुहूर्त (सम ५१)।

पायाचिय वि [पायित] पिलाया हुआ (पउस ११, ४१)।

पायाहिण न [प्रादक्षिण्य] १ क्षेत्र (पत्र ६१)। २ दक्षिण की ओर, 'पायाहियेण तिहि पतिआहिं भाएह लडिपए' (सिदि १६६)।

पायाहिणा देखो पयाहिणा, 'पायाहिए करितो' (उत्त ६, ५६, सुख ६, ५६)।

पार अक [शक्] सकना, करने में समर्थ होना। पारइ, पारेइ (हे ४, ८६, पाअ)। वक. पारत (कुमा)।

पार सक [पारय] पार पहुँचना, पूर्ण करना। पारेइ (हे ४, ८६, पाअ) हेठ पारित्तए (भग १२, १)।

पार पुन [पार] १ तट, किनारा (आचा)। २ पर्ला, किनारा, 'परतीर पार' (पाअ), 'किह म्ह होही भवजलहिपार' (निसा ५)।

३ परलोक, आगामी जन्म। ४ मनुष्य-लोक-भिन्न नरक आदि (सूअ १, ६, २८)। ५ मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, 'पार पुण्युत्तरं बुहा विति' (बृह ४)। °ग वि [°ग] पार जाने-

वाला (श्रौप, सुपा २५४)। °गय वि [°गत] १ पार-प्राप्त (भग, श्रौप)। २ पुं जिन-देव, भगवान् अर्हन् (उप १३२ टी)। °गासि वि [°गामिन्] पर पहुँचनेवाला (आचा, कप्प; श्रौप)। °पाणग न [°पातक] पेय द्रव्य-

विशेष (छाया १, १७)। °विउ वि [°विड] पार को जाननेवाला (सूअ २, १, ६०)। °भोय वि [°भोग] पार-प्राप्त (कप्प)।

पुत्रुद्ध वि [प्रवृद्ध] बढा हुआ, विशेष बृद्ध (दे १, ६)।
 पुत्रुद्धि स्त्री [प्रवृद्धि] बढाव (पञ्च ५, ३३)।
 पुत्रुत्त वि [प्रोक्त] १ जो कहने लगा हो, जिसने बोलना आरम्भ किया हो वह (पञ्च २७, १६, ६४, २१)। २ उक्त, कथित (धर्मवि ८२)।
 पुत्रुत्थ [दे] देखो पञ्चथ, 'बहुत्रय पुत्र पेतु, गामे पुत्रुत्था' (आक २२, २५)।
 पुत्रुद वि [प्रवृत्त] प्रकर्ष से आच्छादित (प्राक १२)।
 पुत्रुद्ध वि [प्रच्युद्ध] १ धारण किया हुआ (स ५११)। २ निश्चिंत (राज)।
 पवेइय वि [प्रवेदित] १ निवेदित, प्रतिपादित, 'तमेव सच्च नीसक ज जिणोहि पनेइय' (उप ३७४ टी, भग)। २ विज्ञात, विदित (राज)। ३ भेंट किया हुआ (उत्त १३, १३, सुख १३, १३)।
 पवेइय वि [प्रवेपित] कम्पित (पञ्च ५, ७८)।
 पवेज्ज सक [प्र + वेदय] १ विदित करना। २ भेंट करना। ३ अनुभव करना। पवेजए (सुप्र १, ८, २५)।
 पवेडिय वि [प्रवेष्टित] धिरा हुआ, वेढा हुआ (सुर १२, १०४)।
 पवेय देपो पवेज्ज। पवेयति (आचा १, ६, २, १२)। हेइ पवेइत्तए (कस)।
 पवेयण न [प्रवेदन] १ प्रत्यण, प्रतिपादन। २ ज्ञान, निर्णय। ३ अनुभावन (राज)।
 पवेयिय वि [प्रवेपित] प्रकम्पित (शाया १, १—पत्र ४७, उत्त २२, ३६)।
 पवेयिर वि [प्रवेपित्] काँपनेवाला (पञ्च ८०, ६४)।
 पवेस सार [प्र + वेशय] घुसाना। पवेसेइ (महा)। पवेसआपि (पि ४६०)।
 पवेस पु [प्रवेश] भीत की स्थूलता (ठा ४, २—पत्र २२५)।
 पवेस पुं [प्रवेश] १ पैठ, घुसना (कुमा, गड, प्रा २२)। २ नाटक का एक हिन्ना (गम्)।
 पवेस पुं [प्रवेश] अधिक द्वेष (भवि)।

पवेसण पुं [प्रवेशन, °क] १ प्रवेश।
 पवेसणग } पैठ (परह १, १, प्रासू ३८,
 पवेसणय } द्रव्य ३२)। २ विजातीय
 जन्मान्तर में उत्पत्ति, विजातीय योनि में प्रवेश (भग ६, ३२)।
 पवेसि वि [प्रवेशिन] प्रवेश करनेवाला (श्रीप)।
 पवेसिय वि [प्रवेशित] घुसाया हुआ (सण)।
 पवोत्त पु [प्रपौत्र] पौत्र का पुत्र (आक ८)।
 पव्व पुन [पर्वन्] १ ग्रन्थि, गाँठ (श्लेष ४८६, जी १२, सुपा ५०७)। २ उत्सव, त्यौहार (सुपा ५०७, आ २८)। ३ पूर्णिमा और अमावास्या तिथि। ४ पूर्णिमा और अमावास्यावाला पक्ष (ठा ६—पत्र ३७०, सुज्ज १०)। ५ अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावास्या का दिन।
 'अट्टमी चउदसी पुरिणमा य तहमावसा ह्वइ पव्व।
 मासम्मि पव्वइक्क तिलि य पव्वाइ पक्खम्मि' (धर्म २)।
 ६ मेखला, गिरिमेखला। ७ दण्डा-पर्वत (सुप्र १, ६, १२)। ८ सख्या-विशेष (इक)।
 °वीय पु [°वीज] इक्षु-आदि वृक्ष, जिसका पर्व—ग्रन्थि—ही उत्पत्ति का कारण होता है (राज)। °राहु पु [°राहु] राहु-विशेष, जो पूर्णिमा और अमावास्या में क्रमशः चन्द्र और सूर्य का ग्रहण करता है (सुज्ज १६)।
 पव्वइ न [पर्वतिन्] १ गोत्र-विशेष, कार्यप गोत्र की एक शाखा। २ पुत्री। उस गोत्र में उत्पन्न (राज)। देखो पव्वपेच्छइ।
 पव्वइ° देखो पव्वई (गा ४५५)।
 पव्वइअ वि [प्रव्रजित] १ दीक्षित, सन्यस्त (श्रीप, दसनि २—गाथा १६४)। २ गत, प्राप्त, 'अगाराओ अणगरिय पव्वइया' (श्रीप, सम, कप्प)। ३ न दीक्षा, सन्यास (वद १)।
 पव्वइद् पु [पर्वतेन्द्र] मेरु पर्वत (सुज्ज ५ टी)।
 पव्वइगा देखो पव्वइअ (उप पु ३३५)।
 स्त्री °गा (उप पु ५४)।
 पव्वइसेइ न [दे] बाल-भय कटक—तावीज (दे ६, ३१)।

पव्वई स्त्री [पार्वती] गौरी, शिव-पत्नी (पाम)।
 पव्वग पुं [पर्वग] सख्या-विशेष (इक)।
 पव्वरु पुं [पर्वक] १ वाद्य-विशेष (परह पव्वग } पुन [पर्वक] २, ५—पत्र १४६)। २ ईख जैसी ग्रन्थिवाली वनस्पति (परण १)। ३ तृण-विशेष (निचू १)।
 पव्वग वि [पार्वक] पर्व—ग्रन्थि—गाँठ का बना हुआ (आचा २, २, ३, २०)।
 पव्वज्ज पु [दे] १ नख। २ शरः बाण। ३ बाल-मृग (दे ६, ६६)।
 पव्वज्जा स्त्री [प्रव्रज्या] १ गमन, गति। २ दीक्षा, सन्यास (ठा ३, २, ४, ४, प्रासू १६७)।
 पव्वणी स्त्री [पर्वणी] कार्तिकी आदि पर्व-तिथि (शाया १, १—पत्र ५३)।
 पव्वपेच्छइ न [पर्वप्रेक्षकिन्] देखो पव्वइ (ठा ७—पत्र ३६०)।
 पव्वय सक [प्र + व्रज्] १ जाना, गति करना। २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना। पव्वयइ (महा)। भवि. पव्वइस्सामो, पव्वइहिति (श्रीप)। वक्क. पव्वयत्त, पव्वयमाण (सुर १, १२३, ठा ३, १)। हेइ. पव्वइत्तए, पव्वइइं (श्रीप, भग, सुपा २०६)।
 पव्वय देखो पव्वग (परण १—पत्र ३३)।
 पव्वय देखो पव्वइअ, 'अगारभावसतावि अरएणा वावि पव्वया' (सुप्र १, १, १, १६)।
 पव्वय पुं पुन [पर्वत, °क] १ गिरि, पहाड़ पव्वयय } (ठा ३, ४, प्रासू १५४, उवा), 'पव्वयाणि वणाणि य' (दस ७, २६, ३०)। २ पु द्वितीय वासुदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५३, पञ्च २०, १७१)। ३ एक ब्राह्मण-पुत्र का नाम (पञ्च ११, ६)। ४ एक राजा (भवि)। ५ एक राज-कुमार (उप ६३७)। °राय पुं [°राज] मेरु पर्वत (सुज्ज ५)। °विट्ठग पुन [°विट्ठग] पर्वतीय देश, पहाडवाला प्रदेश (भग)।
 पव्वयगिह न [पर्वतगृह] पर्वत की गुफा (आचा २, ३, ३, १)।
 पव्वह सक [प्र + वथ्] पीडना, दुःख देना। पव्वहेवा (सुप्र १, १, ४, ६)।

पारावर पु [दे] गवाक्ष, वातायन (दे ६, ४३)।
पारावार पु [पारावार] समुद्र, सागर (पाम्, कुप्र ३७०)।

पाराविअ वि [पारित] जिसको पारण कराया गया हो वह (कुप्र २१२)।

पारासर पु [पाराशर] १ श्रद्धा-विशेष (सूत्र १, ३, ४, ३)। २ न गोत्र-विशेष, जो वशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है। ३ वि उस गोत्र में उत्पन्न (डा ७—पत्र ३६०)। ४ पु भिदुक। ५ कर्म-त्यागी सन्यासी, 'श्रतेवि पारासरा श्रति' (सुख २, ३१)।

पारिओसिय वि [पारितोपिक] तुष्टि-जनक दान, प्रमन्नता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत्त १२२, स १६३, सुर १६, १८२, विचार १७४)।

पारिच्छा देखो परिच्छा, 'व्यपरिणामे चित्ता गिह समन्धेभि तासि पारिच्छा' (उप १७३, उप पृ २७५)।

पारिच्छेज्ज देखो परिच्छेज्ज (खाया १, ८—पत्र १३२)।

पारिजाय देखो पारिय = पारिजात (कुमा)।
पारिट्ठावणिया स्त्री [पारिट्ठापनिक्की] समिति-विशेष, मल आदि के उत्सर्ग में सम्यक् प्रवृत्ति (सम १०, श्रौप, कप्प)।

पारिडि स्त्री [प्रावृत्ति] प्रावरण, वस्त्र, कपडा, 'निकियुद माहमासम्मि पामरो पारिडि वड-लेण' (गा २३८)।

पारिणामिअ देखो परिणामिअ = पारिणामिक (अणु, वम्म ८, ६६)।

पारिणामिआ } देखो परिणामिआ (आव
पारिणामिआ } १, खाया १, १—पत्र ११)।

पारितावणिया स्त्री [पारितापनिक्की] दूसरे को परित्याग—डुग उपजाने से होनेवाला कर्म-बन्ध (सम १०)।

पारितावणी स्त्री [पारितापनी] ऊपर देखो (नर १७)।

पारितोसिअ देखो पारिओसिय (नाड, सुपा २७, प्रामा)।

पारित्त देखो पारत्त = परत्त, 'पारित्त विद्वज्जो पम्मा' (उड ५६)।

पारिप्पन पु [पारिप्पन] पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८)।

पारिभद्द पु [पारिभद्द] बृक्ष-विशेष, फरह्व का पेड (कप्प)।

पारिय वि [पारित] पूर्ण किया हुआ (रयण १६)।

पारिय पु [पारिजात] १ देव-वृक्ष-विशेष, कल्प वृक्ष-विशेष। २ फरह्व का पेड, 'कप्पूर-पारियाण य अहिग्रयरो मालईगधो' (कुमा ५, १३)। ३ न. पुष्प-विशेष, फरह्व का फूल जो रक्त वर्ण का और श्रत्यन्त शोभायमान होता है, 'सुहिण ए विहप्पइ पारियच्छि सुंडीरह सडइ वसइ लच्छि' (भवि)।

पारियत्त पु [पारियात्र] देश-विशेष, 'परि-व्भमतो पत्तो पारियत्तविसय' (कुप्र ३६६)।

पारियल्ल न [दे परिवर्त] पहिए के पृष्ठ भाग की बाह्य परिधि (एदि ४३)।

पारियाय देखो पारिय = पारिजात (सुपा ७६, से ६, ५८, महा, स ७५६)।

पारियावणिया देखो पारितावणिया (डा २, १—पत्र ३६)।

पारियावणिया देखो पारियावणिया (स ५५१)।

पारियासिय वि [पारियासित] वासी रखा हुआ (कस)।

पारिव्वज्ज न [पारिवाज्य] सन्यासिपन, सन्यास (पच्चम ८२, २४)।

पारिव्वाई स्त्री [पारिवाजी, परिवाजिका] सन्यासिनी (उप पृ २७६)।

पारिव्वाय वि [पारिवाज] सन्यासि-सवन्वी (राज)।

पारिसज्ज वि [पारिपद्य] सम्य, सभासद (धमवि ६)।

पारिसाडणिया स्त्री [पारिशाटनिकी] परि-शाटन—परित्याग से होनेवाला कर्म-बन्ध (प्राव ४)।

पारिहच्छी स्त्री [दे] माला (दे ६, ४२)।

पारिहट्टी स्त्री [दे] १ प्रतिहारि। २ आकृष्टि, आकर्षण। ३ निर-प्रसूता महिषी, बहुत देर से ब्याप्यो हुई मँस (दे ६, ७२)।

पारिहत्थिय वि [पारिहत्थिक] स्वभाव से निपुण (डा ६—पत्र ४५१)।

पारिहारिय वि [पारिहारिक] तपस्वी-विशेष, परिहार नामक व्रत करनेवाला (कस)।

पारिहासय न [पारिहासक] कुल-विशेष, जैन मुनियों के एक कुल का नाम (कप्प)।

पारी स्त्री [दे] दोहन-भाण्ड, जिसमें दोहन किया जाता है वह पात्र-विशेष (दे ६, ३७, गउड ५७७)।

पारीण वि [पारीण] पार-प्राप्त, 'वीवर-सत्थाण पारीणो' (धमवि १३, सिरि ४८६, सम्मत ७५)।

पारुअग्ग पुं [दे] विश्राम (दे ६, ४४)।

पारुअल्ल पुं [दे] पृथुक, चिउडा (दे ६, ४४)।

पारुसिय देखो फारुसिय (आचा १, ६, ४, १ टि)।

पारुहल्ल वि [दे] मालीकृत, श्रेणी रूप से स्थापित, 'पालीबधं च पारुहल्लोम्मि' (दे ६, ४५)।

पारेवई स्त्री [पारापती] कद्वतरी, कद्वतर की मादा (विपा १, ३)।

पारेवय पु [पारापत] १ पक्षि-विशेष, कद्वतर (हे १, ८०, कुमा, सुपा ३२८)। २ वृक्ष-विशेष। ३ न फल-विशेष (परण १७)।

पारोक्ख वि [पारोक्ष] परोक्ष-विषयक, परोक्ष-सबन्धी (धमंस ५०२)।

पारोह देखो परोह (हे १, ४४, गा ५७५, गउड)।

पारोहि वि [प्ररोहिन्] प्ररोहवाला, अकुर-वाला (गउड)।

पाल सक [पालय्] पालन करना, रक्षण करना। पालेइ (भग, महा)। वक्क पालयत्त, पालत्त, पालित्त, पालेमाण (सुर २, ७१, स ४६, महा, श्रौप, कप्प)। सक्क. पालइत्ता, पालित्ता, पालेऊण (कप्प, महा), पालेवि (अप) (हे ४, ४४१)। क्क पालियव्व, पालेयव्व (सुपा ४३५, ३७६, महा)।

पाल देखो पार = पारय्। सक्क. पालइत्ता (कप्प)।

पाल पु [दे] १ कलवार, शराव वेचनेवाला। २ वि. जीर्ण, फटा-टूटा (दे ६, ७५)।

पाल पुंन [पाल] श्राभूपण-विशेष, 'पुरवि वा पाल वा तिससय वा कडिसुत्तण वा' (श्रौप)। २ वि. पालक, पालन-कर्ता, 'जो सयलसिधु-सायरहो पालु' (भवि)। स्त्री. 'ला (वव ४)।

पसण्णा छी [प्रसन्ना] मदिरा, दाह (खाया १, १६, विपा १, २) ।

पसत्त वि [प्रसक्त] १ चिपका हुआ (गडड ५१) । २ आसक्त (गडड ५३१, उव) । ३ आपत्ति-ग्रस्त, अनिष्ट-प्राप्ति के दोष से युक्त (वित्ते १८५६) ।

पसत्ति छी [प्रसक्ति] १ आसक्ति, अभिष्वङ्ग (उप १३१) । २ आपत्ति-दोष (अञ्ज ११६) ।

पसत्थ वि [प्रशास्त] १ प्रशसनीय, श्लाघनीय । २ श्रेष्ठ, अच्छा (हे २, ४५, कुमा) ।

पसत्थि छी [प्रशस्ति] १ शोकीर्तन, वय-वाचन (गडड, सम्मत ८३) ।

पसत्थु पु [प्रशास्त] १ लेखाचार्य, गणित का अध्यापक (ठा ३, १) । २ धर्म-शास्त्र का पाठक (ठा ३, १, ओ) । ३ मन्त्री, अमात्य (सूत्र २, १, १३) ।

पसन्न देखो पमण्ण (महा, भवि, सुपा ६१४) ।

पमन्ना देखो पसण्णा (पात्र, पउम १०२, १२२, सुव २, २६) ।

पसप पु [प्रसर्प] विस्तार, फैलाव (द्वय १०) ।

पमपग वि [प्रसर्पक] १ प्रकर्ष से जाने-वाला, मुसाफिरी करनेवाला । २ विस्तार को प्राप्त करनेवाला (ठा ४, ४—पत्र २६४) ।

पसम अक [प्र + शम्] अन्धरी तरह शान्त दान । पसमति (प्राक १६) ।

पसम पु [प्रशम] १ प्रशान्ति, शान्ति (कुमा) । २ सगातार दो उपवास (मवोव ५८) ।

पसम पु [प्रशम] विशेष मेहनत—खेद (श्राव ४) ।

पसमण न [प्रशमन्] १ प्रष्टु शान्त (पिड ६६३, सुर १, २४६) । २ वि. प्रशान्त करने-वाला (न ६६५) । छी १णी (कुमा) ।

पसमापिअ वि [प्रशमित] प्रशान्त किया हुआ (न ६२) ।

पसमिअय न [प्रसम् + ईअ] प्रवर्ष न देना । सक पसमिअय (उत्त १४, १५) ।

पसमिण वि [प्रशमिन्] प्रशान्त करनेवाला, नाश करनेवाला, 'पावति, पावपसमिण पास-जिण सुह प्पभावेण' (एणि १७) ।

पसम्म देखो पसम = प्र + शम् । पसम्मइ (गडड) । वक. पसम्मत्त (से १०, २२, गडड) ।

पसय पु [दे] १ मृग-विशेष (दे ६, ४, पणह १, १, भवि, सण, महा) । २ मृग-शिशु (विपा १, ४) ।

पसय वि [प्रसृत] फैला हुआ, 'पसयन्धि' (वजा ११२, १४४) । देखो पसिअ = प्रसृत ।

पसर अक [प्र + स] फेलना । पसरइ (पि ४७७, भवि) । वक पसरत्त (सुर १, ८६, भवि) ।

पसर पु [प्रसर] विस्तार, फैलाव (हे ४, १५७, कुमा) ।

पसरण न [प्रसरण] ऊपर देखो (कप्पु) ।

पसरिअ वि [प्रसृत] फैला हुआ, विस्तृत (श्रौप, गा ४, भवि, ख्याया १, १) ।

पसरेह पु [दे] किजल्क (दे ६, १३) ।

पसहिअ वि [दे] प्रेरित (षड्) ।

पसव सक [प्र + सू] जन्म देना, उत्पन्न करना । पसवइ (हे ४, २३३) । पसवति (उव) । वक पसवमाण (सुपा ४३४) ।

पसव (अप) सक [प्र + विश] प्रवेश करना । पसवइ (प्राक ११६) ।

पसव पु [प्रसव] १ जन्म, उत्पत्ति (कुमा) । २ न. पुष्प, फूल, 'कुमुम पसव पसूअ व' (पात्र), 'पुष्पाणि अ कुमुमाणि अ फुल्लाणि त्हेव होति पसवाणि' (दसनि १, ३६) ।

पसव [दे] देखो पसय । 'पसवा हवति एए' (पउम ११, ७७) । 'नाह पु [नाथ] मृग-राज, सिंह (स ६५७) । 'राय पु [राज] सिंह (स ६५७) ।

पसवडक न [दे] विलोकन (दे ६, ३०) ।

पसवण न [प्रसवन] प्रसूति, जन्म दान (मग, उप ७४४, सुर ६, २४८) ।

पसवि वि [प्रसविन्] जन्म देनेवाला (नाट—शकु ७४) ।

पसविय वि [प्रसूत] जो जन्म देने लगा हो, जिसने जन्म दिया हो वक, 'सयमेव पसविया

ह महाकिलेसेण नरनाह' (सुर १०, २३०; सुपा ३६) । देखो पसूअ = प्रसूत ।

पसविर वि [प्रसवित्] जन्म देनेवाला (नाट) ।

पसस्स देखो पसस ।

पसस्स वि [प्रशस्य] प्रभूत शस्यवाला (सुपा ६४५) ।

पसाइअ वि [प्रसादित] १ प्रसन्न किया हुआ (स ३८६, ५७६) । २ प्रसन्न होने के कारण दिया हुआ, 'अगविलगमसेस पसाइअ कडयवत्याइ' (सुर १, १६३) ।

पसाइआ छी [दे] भिल्ल के भिर पर का पर्या-मुट, भिल्लो की पगही (दे ६, २) ।

पसाइयव्व देखो पसाय = प्र + सादय ।

पसाम वि [प्रशाम्] शान्त होनेवाला (षड्) ।

पसाय सक [प्र + सादय] प्रसन्न करना, खुश करना । पसाअत्ति, पसाएत्ति (गा ६१, सिक्खा ६१) । वक. पसाअमाण (गा ७४५) । हेक पसाइव, पसाएव (महा, गा ५२४) । क पसाइयव्व (सुपा ३६५) ।

पसाय पु [प्रसाद] १ प्रसक्ति, प्रसन्नता, खुशी, 'जणमाणपसायजणणो' (वसु) । २ कृपा, मेहरबानी (कुमा) । ३ प्रणय (गा ७१) ।

पसायण न [प्रसादन] प्रसन्न करना, 'देव-पसायणपहाणमणो' (कुप्र ५, सुपा ७, महा) ।

पसार सक [प्र + सारय] पसारना, फैलाना । पसारेइ (महा) । वक पसारेमाण (खाया १, १, आचा) । सक पसारिअ (नाट—मूच्छ २५५) ।

पसार पु [प्रसार] विस्तार, फैलाव (कप्पु) ।

पसारण न [प्रसारण] ऊपर देखो (सुपा ५८३) ।

पसारिअ वि [प्रसारित] १ फैलाया हुआ (सण, नाट—वेणी २३) । २ न प्रसारण (सम्मत्त १३३, दस ४, ३) ।

पसास सक [प्र + शासय] १ शासन करना, हुकूमत करना । २ शिक्षा देना । ३ पालन करना । वक 'रज्ज पसासेमाणे विहरइ' (खाया १, १ टी—पत्र ६, १, १४—पत्र १८६, श्रौप, महा) ।

पावरण पु [प्रावरण] एक म्लेच्छ जाति (मृच्छ १५२)।

पावरण न [प्रावरण] वस्त्र, कपडा (हे १, १७५)।

पावरिय वि [प्रावृत] आन्ध्रद्वि (कुप्र ३८)।
पावस देखो पाउस (कुप्र ११७)।

पावा स्त्री [पापा] नगरी विशेष, जो आजकल भी विहार के पास पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध है (कम्प, ली ३, पचा १६, १७, पव ३४, विचार ४६)।

पावाइ वि [प्रमादिन्] वाचाट, दार्शनिक (सूत्र २, ६, ११)।

पावाइअ वि [प्राम्राजिक] सन्यासी (रयण २२)।

पावाइअ वि [प्रावादिक] देखो पावाइ (आचा)।

पावाइअ } वि [प्रावादिक] वाचाट, दार्शनिक
पावादुय } निक (सूत्र १, १, ३, १३, २, २, ८०, पि २६५)।

पावार पु [प्रावार] १ बँधावाला कपडा। २ मोटा कम्बल (पव ८४)।

पावारय देखो पारय = प्रावारक (हे १ २७१, कुमा)।

पावालिया स्त्री [प्रपापालिका] प्रपा या प्याऊ पर निगुक्त स्त्री (गा १६१)।

पावामु } वि [प्रमासिन्, °क] प्रवास
पावासुअ } करनेवाला (पि १०५, हे १, २५, कुमा)।

पाविअ वि [प्राप्त] लब्ध, मिला हुआ (सुर ३, १६, स ६८६)।

पाविअ वि [प्रापित] प्राप्त करवाया हुआ (मण, नाट—मृच्छ २७)।

पाविअ वि [प्लावित] सरावोर किया हुआ, गूब निनाया हुआ (कुमा)।

पाविअ वि [पापिअ] अत्यन्त पापी (उव ७२८, डी, सुर १, २१३, २, २०५, सुपा १६६, था १८)।

पावीअ डेगो पाव वीड (पञ्च ३, १, हे १, २००, गुमा)।

पावीअम डेगो पावस (पि ८०२, ८१४)।

पावुअ वि [प्रावृत] आन्ध्रद्वि (सति ४)।

पावेअनाग डेगो पाव = प्र + पाव।

पावेस वि [प्रावेश्य] प्रवेशोचित, प्रवेश के लायक (श्रौप)।

पावेस पु [प्रावेश] वक्र के दोनों तरफ लटकता बँधा (खाया १, १)।

पास सक [इश] १ देखना। २ जानना।

पासइ, पासेइ (कम्प)। पासिम = 'पर्य' (आचा १, ३, ३, ५)। कर्म पासिअइ (पि ७०)। वक्र पासत, पासमाण (स ७५, कम्प)। सक पासिअ, पासित्ता, पासित्ताण, पासिया (पि ४६५, कम्प, पि ५८३, महा)।

हेक पासित्ताए, पासिअ (पि ५७८, ५७७)। क पासियच्च (कम्प)।

पास पु [पार्ष्व] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल के तेईसवें जिन-देव (सम १३, ४३)। २ भगवान् पारर्वनाथ का अधिष्ठायक यक्ष (सति ८)। ३ न कन्वा के नीचे का भाग, पाँजर (खाया १, १६)। ४ समीप, निकट (सुर ४, १७६)। ५ 'वच्चिज्ज वि [°पत्थीय] भगवान् पारर्वनाथ की परम्परा में संजात (भग)।

पास पुं [पाश] फाँसा, बन्धन-रज्जू (सुर ४, ३३७, श्रौप, कुमा)।

पास न [दे] १ आँख। २ दाँत। ३ कुन्त, प्रास। ४ वि विशेष, कुडौल, शोभा हीन (दे ६, ७५)। ५ पुन अन्य वस्तु का अल्प-मिश्रण, 'निच्चुओ तवोतो पासेण विणा न होइ जह रगो' (भाव २)।

पास वि [°पाश] अपसद, निकृष्ट, जघन्य, कुत्सित, 'एस पासडियपासो कि करिस्सइ' (सम्मत्त १०२)।

पासंगिअ वि [प्रासङ्गिक] प्रसंग सबन्धी, आनुपगिक (कुम्मा २७)।

पासड न [पासण्ड] १ पाखण्ड, असत्य धर्म, धर्म का ढोंग (ठा १०, खाया १, ८, उवा, थाव ६)। २ व्रत (अणु)।

पासडि } वि [पासण्डिन्, °क] १
पासडिय } पाखण्ड, लोक में पूजा पाने के लिए धर्म का ढोंग रचनेवाला (महानि ४, कुप्र २७६, सुपा ६६, १०६, १६२)। २ पु व्रती, साधु, मुनि, 'पव्वइअ अणुगारे पासडे' (१ डी) चरग तावसे भिक्खु। परिव्वाइए य समणे' (दत्तनि २—गाया १६४)।

पासंदण न [प्रस्यन्दन] भरन, टपकना (बृह १)।

पासग वि [दर्शक] देखनेवाला (आचा)।

पासग पुं [पाशक] १ फाँसा, बन्धन-रज्जू (उप ५ १३, सुर ४, २५०)। २ पासा, जुआ खेलने का उपकरण-विशेष (ज ३)।

पासग न [प्राशक] कला-विशेष (श्रौप)।

पासण न [दर्शन] श्रवणलोकन, निरीक्षण (पिंड ४७५, उप ६७७, श्रोध ५४, सुपा ३७)।

पासणया स्त्री ऊपर देखो (श्रोध ६३, उप १४८, खाया १, १)।

पासणिअ वि [दे] साक्षी (दे ६, ४१)।

पासणिअ वि [प्राशिनक] प्रश्न-कर्ता (सूत्र १, २, २, २८, आचा)।

पासस्थ वि [पार्ष्वस्थ] १ पार्ष्व में स्थित, निकट-स्थित (पञ्च ६८, १८, स २६७, सूत्र १, १, २, ५)। २ शिथिलाचारी साधु (उप ८३३, टी, खाहा १, ५, ६—पत्र २०६, साधं ८८)।

पासस्थ वि [पाशस्थ] पाश में फँसा हुआ, पाशित (सूत्र १, १, २, ५)।

पासल न [दे] १ द्वार (दे ६, ७६)। २ वि. तिर्यक्, वक्र (दे ६, ७६, से ६, ६२, गलड)।

पासल देखो पास = पार्ष्व (से ६, ३८, गलड)।

पासल अक [तिर्यच्छ, पार्थाय] १ वक्र होना। २ पार्थ वृणाना, 'पासल्लति महिहरा' (से ६, ४५)। वक्र पासल्लत (से ६, ४१)।

पासलइअ देखो पासल्लिअ (से ६, ७७)।

पासल्लि वि [पार्थिन्] पार्थ-शयित, 'उत्ताण-गपासल्ली नैसज्जी वावि ठाण ठाड्ठा' (पव ६७, पंचा १८, १५)।

पासल्लिअ वि [पार्थित, तिर्यक्त] १ पार्थ में किया हुआ। २ टेढ़ा किया हुआ (गलड, पि ५६५)।

पासवण न [प्रसवण] मूत्र, पेशाब (सम १०, कस, कम्प, उवा, सुपा ६२०)।

पासाईय देखो पासादीय (सम १३७, उवा)।

पासाकुसुम न [पाशाकुसुम] पुष्प-विशेष, 'अप्यम गम्मनु सिंसिरं पासाकुसुमेहिं ताव, मा मरसु' (गा ८१६)।

पस्स सक [दृश्] देखना । पस्सइ (पड्, प्राकृ ७१) । वक्र. पस्समाण (आचा, श्रौप, वसु, विपा १, १) । कृ पस्स (ठा ४, ३) । पस्स (श्री) देखो पास = पारवँ (अभि १८६, अवि २६, स्वल्प ३६) ।

पस्स देखो पस्स = दृश् ।

पस्सओहर वि [पश्यतोहर] देखते हुए चोरी करनेवाला, सुनार, उचक्का, 'नणु एसो पस्सओहरो तेणो' (उप ७२८ टी) ।

परिसि वि [दर्शिन] देखनेवाला (परण ३०) । पस्सेय देखो पसेअ (सुख २, ८) ।

पह वि [प्रह] १ नञ् । २ विनीत । ३ आसक्त (प्राकृ २४) ।

पह पु [पयिन्] मार्ग, रास्ता (हे १, ८८, पात्र, कुमा, आ २८, विसे १०५२, कप्प, श्रौप) । 'देसय वि [देशक] मार्ग-दशक (पउम ६८, १७) ।

पहण्ण पु [दे] अप्र, पूआ, खाद्य-विशेष (दे ६, १८) ।

पहणर देखो पभकर (उत्त २३, ७६, सुख २३, ७, इक) ।

पहणरा देखो पभकरा (इक) ।

पहणण पु [प्रभञ्ज] १ वायु, पवन (पात्र) । २ देव-जाति-विशेष, भवनपति देवो की एक भवान्तर जाति (सुपा ४०) । ३ एक राजा (भवि) ।

पहणर [दे] देखो पहणर (राया १, १, गप्प, श्रौप, उप ४७, विपा १, १, राय, भग ६, ३) ।

पहण्ट वि [दे] १ दृप्त, उदत्त (दे ६, ६, प२) । २ अचिरतर दृष्ट, थोड़े ही समय के पूर्व देखा हुआ (पड्) ।

पहण्ट वि [प्रहण्ट] आनन्दित, हर्ष-प्राप्त (श्रौप, भग) ।

पहण सक [प्र + हण] मार डालना । पहणः पहणे (महा, उत्त १८, ४६) । पमं पहण्णइ (महा) । वक्र पहणत (पउम १०५, ६५) । वक्र पहम्मत, पहम्ममाग (वि ५४०, सुर २, १४) ।

हण्ट पहण्णः पहणोउ (कुम २५, महा) । पहण न [दे] बुल, वरा (दे ६, ५) ।

पहणि लो [दे] समुखागत का निरोध, सामने आए हुए का अटकाव (दे ६, ५) ।

पहणिय देखो पहय = प्रहत (सुपा ४) ।

पहण्ण पुं [प्रहरत] रावण का मामा (से १२, ५५) ।

पहण वि [दे] सदा दृष्ट (दे ६, १०) ।

पहम्म सक [प्र + हम्म] प्रकर्ष से गति करना । पहम्मइ (हे ४, १६२) ।

पहम्म न [दे] १ सुर-खात, देव-कुण्ड (दे ६, ११) । २ खात-जल, कुण्ड । ३ विवर, छिद्र (से ६, ४३) ।

पहम्मत } देखो पहण = प्र + हण् ।
पहम्ममाण }

पहय वि [प्रहत] १ घृष्ट, घिसा हुआ (से १, ५८, बृह १) । २ मार डाला गया, निहत (महा) ।

पहय वि [प्रहत] जिस पर प्रहार किया गया हो वह, 'पहया अहिमतिथजलेण' (महा) ।

पहयण पु [दे] निकर, समूह, युथ (दे ६, १५, जय १३, पात्र) ।

पहर सक [प्र + ह] प्रहार करना । पहरइ (उव) । वक्र पहरत (महा) । सक्क पहरिऊण (महा) । हेक्क पहरिउ (महा) ।

पहर पु [प्रहार] १ मार, प्रहार (हे, १, ६८, पड्, प्रात्र, सक्ति २) । २ जहाँ पर प्रहार किया हो वह स्थान (से २, ४) ।

पहर पु [प्रहर] तीन घटे का समय (गा २८, ३१, पात्र) ।

पहरण न [प्रहरण] १ अन्न, आधुष (आचा, श्रौप, विपा १, १, गउड) । २ प्रहार-क्रिया (से ३, ३८) ।

पहराइया देखो पहाराइया (परण १—पत्र ६४) ।

पहराय पु [प्रभराज] भरतक्षेत्र का छठवाँ प्रतिवासुदेव (सम १५४) ।

पहरिअ वि [प्रहत] १ प्रहार करने के लिए उद्यत (सुर ६, १२६) । २ जिस पर प्रहार किया गया हो वह (भवि) ।

पहरिस पु [प्रहर्ष] आनन्द, खुशी, 'आमोघो पहरिसो वोसो' (पात्र, सुर ३, ४०) ।

पहलादिद (श्री) वि [प्रह्लादित] आनन्दित (स्वल्प १०६) ।

पहल्ल अक [घूर्ण] घूमना, कांपना, डोलना, हिलना । पहल्लइ (हे ४, ११७, पड्) । वक्र पहल्लत (सुर १, ६६) ।

पहल्लि वि [प्रघूर्णित्तु] घूमनेवाला, डोलता (कुमा, सुपा २०४) ।

पहव अक [प्र + भू] १ उत्पन्न होना । २ समर्थ होना । पहवइ (पचा १०, १०, स ७०, सक्ति ३६) । भवि. पहविस्सं (वि ५२१) । वक्र. पहवत (नाट—मालवि ७२) ।

पहव पु [प्रभव] उत्पत्ति-स्थान (अभि ४१) । पहव देखो पहाव = प्रभाव (स ६३७) ।

पहव देखो पह = प्रह (विसे ३००८) ।

पहव पु [प्रभव] एक जैन महर्षि (कुमा) ।

पहविय वि [प्रभूत] जो समर्थ हुआ हो, 'भणिकुडलाणुभावा सत्थ नो पहविय नरिदस्स' (सुपा ६१५) ।

पहस अक [प्र + हस्] १ हसना । २ उपहास करना । पहसइ (भवि, सण) । वक्र. पहसत (सण) ।

पहसण न [प्रहसन] १ उपहास, परिहास । २ नाटक का एक भेद, हास्य-रस प्रधान नाटक, रूपक-विशेष, 'पहसणप्याय कामसत्थ-वयण' (स ७१३, १७७, हास्य ११६) ।

पहसिय वि [प्रहसित] १ जो हसने लगा हो (भग) । २ जिसका उपहास किया हो वह (भवि) । ३ न हास्य (बृह १) । ४ पु पवनञ्जय का एक विद्याधर-मित्र (पउम १५, ५६) ।

पहा सक [प्र + हा] १ त्याग करना । २ अक. कम होना, क्षीण होना, 'पहेल्ल लोह' (उत्त ४, १२, वि ५६६) । वक्र. पहिल्लमाण, पहेल्लमाण (भग, राज) । सक्क पहाय, पहिऊण (आचा १, ६, १, १, वव ३) ।

पहा लो [प्रथा] १ रीति, व्यवहार । २ स्याति, प्रसिद्धि (पड्) ।

पहा लो [प्रभा] कान्ति, तेज, आलोक, दीप्ति (श्रौप, पात्र, सुर २, २३५, कुमा, वेइय ५१४) । 'मडल देखो भामडल (पउम ३०, ३२) । 'यर पु [कर] १ सूर्य, रवि । २ रामचन्द्र के भाई भरत से साथ दीक्षा लेनेवाला एक राजर्षि (पउम ८५, ५) । 'वई लो

कुमा)। °अमा स्त्री [°तमा] पत्नी, भार्या (कुमा)। °अर वि [°कर] प्रीति-जनक (नाट—पिंग)। °कारिणी स्त्री [°कारिणी] भगवान् महावीर की माता का नाम, त्रिशला देवी (कल्प)। °गय पु [°ग्रन्थ] एक प्राचीन जैन मुनि, ग्राचार्य सुद्वियत श्रौर सुप्रतिग्रह का एक शिष्य (कल्प)। °जाअ वि [°जाय] जिसकी पत्नी प्रिय हो वह (गा ५१८)। °जाआ स्त्री [°जाया] प्रेम-पात्र पत्नी (गा १६६)। °दसण वि [°दर्शन] १ जिसका दर्शन प्रिय—प्रीतिकर हो वह (छाया १, १—पत्र १६, श्रौप)। २ पु. दय-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७६)। °दसणा स्त्री [°दर्शना] भगवान् महावीर की पुत्री का नाम (भावम)। °धम्म वि [°धर्मन्] १ धर्म की श्रद्धावाला (छाया १, ८)। २ पु. श्री रामचन्द्र के साथ जैन दोहा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ५)। °भाउग पु [°भ्रातृ] पति का भाई (उप ६४८ टी)। °भासि वि [°भाषिन्] प्रिय-युक्त (महा ५८)। °मित्त पु [°मित्र] १ एक जैन मुनि, जो अपने पीछले भव में पाँचवां वासुदेव हुआ था (पउम २०, १७१)। °मेलय वि [°मेलकृ] १ प्रिय का मेल—संयोग करानेवाला। २ न एक तीर्थ (स ५५१)। °उय वि [°युक्त] जीवित-प्रिय (भाना)। °ायग वि [°यत, °त्मक] आत्म प्रिय (माचा)।

पिअ देगो पीअ, 'पीमापीअं पिमापिमं' (प्राप्र. सण. नवि)।

पिअ° देगा पिउ (प्रासू ७६, १०८)। °हर न [°गृह] पिता का घर, पीहर, नैहर, मैका (पउम १७, ७)।

पिअआ देत पिआ (धा १६)।

पिअइउ (भा) वि [°प्रीणयितृ] प्रीति उप-जाना, गुप्त करनेवाला (भरि)।

पिअउदिय (मप) देत पिआ (नवि)।

पिअररि [°प्रातर] १ शभोष्ट-नर्वक, षट्-वार (उत्त ११, १५)। २ पु. एक चक्रवर्ती राजा (उ २७२)। ३ रामचन्द्र के पुत्र लव का पुत्र का नाम (पउम १०४, २६)।

पिअगु पु [°प्रियङ्ग] १ वृक्ष-विशेष, त्रिमशु, ककू दनी का पेड़ (पाम्र, श्रौप, सम १५२)। २ कशु, मालकांजी का पेड़, 'पियंगुणो कशु' (पाम्र)। ३ स्त्री. एक स्त्री का नाम (विवा १, १०)। °लइया स्त्री [°लतिका] एक स्त्री का नाम (महा)।

पिअवय वि [°प्रियवद्] मधुर-भाषी (सुर १, ६५, ४, ११८, महा)।

पिअवाइ वि [°प्रियवादिन्] ऊपर देखो (उत्त ११, १४, सुख ११, १४)।

पिअण न [°दे] दुग्ध, दूध (दे ६, ४८)।

पिअण न [°पान] पीना, 'तुह्यन्नपियणनिरय' (धर्मवि १२५, सुख ३, १, उप १३६ टी, स २६३, सुपा २४५, चेइय ५७०)।

पिअणा स्त्री [°पृतना] सेना विशेष, जिसमें २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२६ घोड़े और १२१५ प्यादें हो वह लश्कर (पउम ५६, ६)।

पिअमा स्त्री [°दे] प्रियपु वृक्ष (दे ६, ४६, पाम्र)।

पिअमाहवी स्त्री [°दे] कोकिला, पिकी (दे ६, ५१, पाम्र)।

पिअय पु [°प्रियक] वृक्ष-विशेष, विजयसार का पेड़ (श्रौप)।

पिअर पुन [°पितृ] १ माता-पिता, मा-बाप, 'सुणत्तु निण्णयमिम पियरा', 'पियराई वय-ताई' (धर्मवि १२२)। २ पु. पिता, बाप (पाम्र)।

पिअरज सक [°भञ्ज] भांगना, तोड़ना। पियरंजइ (प्राकृ. ७४)।

पिअल (मप) देखो पिअ = प्रिय (पिंग)।

पिआ स्त्री [°प्रिया] पत्नी, कान्ता, भार्या (कुमा, हेका ६६)।

पिआमह पु [°पितामह] १ ब्रह्मा, चतुरानन (से १, १७, पाम्र, उप ५६७ टी, स २३१)। २ पिता का पिता, दादा (उय)। °तणअ पु [°तनय] जाम्बवान्, वानर-विशेष (से ४, ३७)। °त्य न [°स्त्र] मन्त्र-विशेष, ब्रह्मास्त्र (से १५, ३७)।

पिआमही स्त्री [°पितामही] पिता की माता, दादी (सुपा ४७२)।

पिआर (मप)। वि [°प्रियतर] प्यारा (कुप्र ३२, नवि)।

पिआरी (मप) स्त्री [°प्रियतरा] प्यारी, प्रिया, पत्नी (पिंग)।

पिआल पु [°प्रियाल] वृक्ष-विशेष, पियाल, चिरीजी का पेड़ (कुमा, पाम्र, दे ३, २१, पण्ण १)।

पिआलु पु [°प्रियालु] वृक्ष-विशेष, खिन्नी, खिरनी का गाछ (उर २, १३)।

पियासा देखो पिवासा (गा ८१४)।

पिइ देखो पीइ, 'तेण पिइए सिद्धं' (पउम ११, १४)।

पिइ पुं [°पितृ] १ पिता, बाप (उप ७२८ टी)। २ मघा नक्षत्र का ऋषिष्ठायक देव (सुज १०, १२, पि ३६१)। °मेह पु [°मेध] यज्ञ-विशेष, जिसमें बाप का होम किया जाय वह यज्ञ (पउम ११, ४२)। °वण न [°वन] श्मशान (सुपा ३५६)। °हर न [°गृह] पिता का घर, पीहर (पउम १८, ७, सुर ६, २३६)। देखो पिड।

पिइङ्ग पु [°पितृज्य] चाचा, बाप का भाई; 'सुपासो वीरणिणपिइङ्गो (? ञ्ज)' (विचार ४७८)।

पिइय वि [°पैतृक] पिता का, पितृ-संबन्धी (भग)।

पिउ } पु [°पितृ] १ बाप, पिता (सुर १, पिउअ } १७६, श्रौप, उय, हे १, १३१)।

२ पुन मां बाप, माता-पिता, 'अनया मह पिऊणि गामं पत्ताई' (धर्मवि १४७ सुपा ३२६)। °कम्म पु [°कम्म] पितृ-वश, पितृ-कुल (कुमा)। °कुल न [°कुल] पिता का वंश (पड्)। °घर न [°गृह] पिता का घर, पीहर (सुपा ६०१)। °च्छा, °च्छी स्त्री [°ष्वस्] पिता की वहिन, फूमा, बूमा, फुरू (गा ११०, हे २, १४२, पाम्र, छाया १, १६), 'कोति पिउत्वि (? चिह्न) सक्कारेइ' (छाया १, १६—पत्र २१६)। °पिड पुं [°पिण्ड] मृतक-भोजन, श्राद्ध में दिया जाता भोजन (आचा २, १, २)। °भगिणी स्त्री [°भगिनी] फूकी, पिता की वहिन (सुर ३, ८२)। °वइ पु [°पति] यम, यमराज (हे १, १३४)। °वण न [°वन] श्मशान (पउम १०५, ५१, पाम्र, हे १, १३४)। °सिआ स्त्री [°ष्वस्] फूकी (हे

पहुणाइय न [प्राद्युष्य] आतिथ्य, प्रतिथि-
सत्कार, 'न्हाणभोयणवत्वाहरणदाणाइपहु-
णाडि (? इय सपाडेइ' (रभा) ।

पहुत्त वि [प्रभूत] १ पर्याप्त, काफी, 'पजत्तं
च पहुत्तं' (पाम, गउड, गा २७७) । २
समर्थ (से २, ६) । ३ पहुँचा हुआ (ती
१५) ।

पहुवि देखो पभिइ (संखि ४, प्राक १२) ।

पहुप्प } अरु [प्र + भू] १ समर्थ होना,
पहुय } समना । २ पहुँचना । पहुप्पइ (हि
४, ६२, प्राक ६२), 'एयाओ वालियाओ निय-
नियोहेयु जह पहुप्पति तह कुणह' (सुपा
२५०) । पहुप्पामो (काल), पहुप्पिरे (हे ३,
१४२) । वक्क 'कि सहइ कोवि कस्सवि पाअ-
पहार पहुप्पतो', पहुप्पमाण (गा ७, घोष
५०५, किरात १६) । कवक्क पहुव्वत (से
१४, २५, वव १०) । हेक्क पहुचिउ
(महा) ।

पहुवी ओ [पृथिवी] भूमि, धरती (नाट—
मालती ७२) । पहु पु [प्रभू] राजा
(हम्मीर १७) । वइ पु [पति] बही अर्थ
(हम्मीर १) ।

पहुव्वत देखो पहुय ।

पहुअ वि [प्रभूत] १ बहुत, प्रचुर (स
२७६) । २ उदगन । ३ भूत । ४ उन्नत
(प्राक ६२) ।

पहुअमाण देखो पहा = प्र + हा ।

पहेण न [दे] वधू को से जाने पर पिता के
घर दी जाता जमीन (आचा २, १, ४, १) ।

पहेण न [दे] १ भोजनोपायन, खाद्य
पहेणग वन्मु की भेंट (आचा, सूत्र २, १,
पहेणय ५६, गा ३२८, ६०३, पिड ३३५,
पाम, दे ६, ७३) । २ उन्नत (दे ६, ७३) ।

पहेरक न [पहेरक] आभरण-विशेष (परह
२, ५—पय १४६) ।

पहेलिया जी [पहेलिया] शूद्र आशयवाली
भविता (मुना १५५, शीप) ।

पहोअ ता [प्र + घा] प्रकालन करना,
घोना । पहोअज (आचा २, २, १, ११) ।

पहोद वि [प्रधापिन] धोनेवाला (वन ४,
२६) ।

पहोइअ वि [दे] १ प्रवृत्त । २ प्रभुत्व
(दे ६, २६) ।

पहोड सक [वि + लुत्] हिलोरना, अन्दो-
लना । पहोडइ (धात्वा १४४) ।

पहोयण छीन [प्रधावन] प्रकालन, 'दतपहो-
यण य' (दस ३, ३) ।

पहोखि वि [प्रघुर्णिट्] हिलनेवाला, डोलता
(गा ७८, ६६६, से ३, ४६, पाम) ।

पहोव देखो पधोव । पहोवाहि (आचा २, १,
६, ३) ।

पा सक [पा] पीना, पान करना । भवि
पाहिसि, पाहामि, पाहामो (कप्प, पि ३१५,
कम) । कर्म, पिज्जइ (उव), पीमति (पि
५३६) । कवक्क पिज्जत (गउड, कुप्र १२०) ।
पीयमाण (स ३८२), पेत (अप) (सण) ।
सक्क पाऊण, पाऊण (नाट—सुवा ३६,
गउड, कुप्र ६२) । हेक्क पाउ, पायए (प्राचा) ।
क्क पायव्व, पिज्ज (सुपा ४३८, परह १,
२, कुमा २, ६), पेअ, पेयव्व (कुमा,
रयण ६०), पेज्ज (साया १, १, १७,
उवा) ।

पा सक [पा] रक्षण करना । पाइ, पाअइ
(विसे ३०२५, हे ४, २४०), पाउ (पिंग) ।

पा सक [प्रा] सूँघना, गन्ध लेना । पाइ,
पाअइ (प्राप्र ८, २०) ।

पाइ वि [पातिन्] गिरनेवाला (पचा ५,
२०) ।

पाइ वि [पायिन्] पीनेवाला (गा ५६७,
हि ६) ।

पाइअ न [दे] वदन विस्तार, भूँह का फैलाव
(दे ६, ३६) ।

पाइअ देखो पागय = प्रकृत (दे १, ४, प्राक
८, प्रासू १, वजा ८, पाम, पि ५३), 'अह
पाइआओ आसाओ' (कुमा १, १) ।

पाइअ वि [पायित] पिलाया हुआ, पान
कराया हुआ (कुप्र ७६, सुपा १३०, स
४५४) ।

पाइत देनो पाय = पायय ।

पाइक्क पु [पदाति] व्यादा, पैर से चलनेवाला
सैनिक (हे २, १३८, कुमा) ।

पाइडि ओ [प्रावृति] प्रावरण, वक्क (गा
२३८) ।

पाइण देखो पाईण (पि २१५ टि) ।

पाइत्ता (अप) ओ [पवित्रा] छन्द-विशेष
(पिंग) ।

पाइद [शौ] वि [पाचित] पकनाया हुआ
(नाट—चैत १२६) ।

पाइन्न देखो पाईण (रादि ४६) ।

पाइभ न [प्रातिभ] प्रतिभा, बुद्धि-विशेष (कुप्र
१५५) ।

पाइम वि [पाक्य] १ पकाने योग्य । २
काल-प्राप्त, मृत (दस ७, २२) ।

पाइम वि [पात्य] गिराने योग्य (आचा २,
४, २, ७) ।

पाई ओ [पात्री] १ भाजन विशेष (साया १,
१ टी) । २ छोटा पात्र (सूत्र २, २, ७०) ।

पाईण वि [प्राचीन] १ पूर्वदिशा-सवन्वी,
'ववहार-पाइणाई (? ईणाई)' (पिड ३६,
कप्प, सम १०४) । २ न गोत्र-विशेष । ३
पुत्री उस गोत्र में उत्पन्न, 'बेरे अज्जमह-
वाहू पाईणसगोत्ते (कप्प) ।

पाईणा ओ [प्राचीना] पूर्व दिशा (सूत्र २,
२, ५८, ठा ६—पत्र ३५६) ।

पाउ देखो पाउ = प्राडुस् (सूत्र २, ६, ११,
उवा) ।

पाउ पु [पायु] गुदा, गाँड (ठा ६—पत्र
४५०, सण) ।

पाउ पुळी [दे] १ भक्त, भात, भोजन । २
इक्षु, ऊख (दे ६, ७५) ।

पाउअ न [दे] १ हिम, अवरयाय (दे ६,
३८) । २ भक्त । ३ इक्षु (दे ६, ७५) ।

पाउअ देखो पाउड = प्रावृत (गा ५२०, स
३५०, श्रौप, सुर ६, ८, पाम, हे १,
१३१) ।

पाउअ देखो पागय (गा २, ६६८, प्राप्र,
कप्प, पिंग) ।

पाउआ ओ [पाटुका] १ खडाऊँ, काष्ठ का
जूता (भग, सुख २ २६, पिड ५७२) । २
जूता, पगरखी (सुपा २५४, श्रौप) ।

पाउ देखो पा = पा ।

पाउ अ [प्राटुस्] प्रकट, व्यक्त, 'सति
असति करिस्सामि पाउ' (सूत्र १, १, ३,
१) ।

पिंडा पु [पिण्डक] ऊपर देखो (कस) ।
 पिण्डण न [पिण्डन] १ द्रव्यो का एकत्र
 सरलेप (पिंडमा २) । २ ज्ञानावरणीयादि
 कर्म (पिंड ६६) ।
 पिण्डणा छी [पिण्डना] १ समूह (श्लोष
 ४०७) । २ द्रव्यो का परस्पर संयोजन (पिंड
 २) ।
 पिण्डय देखो पिंड (श्लोषमा ३३) ।
 पिण्डरय न [दे] दाहिम, अन्तार (दे ६, ४८) ।
 पिण्डलइय वि [दे] पिएडीकृत, पिएडाकार
 किया हुआ (दे ६, ५४, पात्र) ।
 पिण्डलग न [दे] पटलक, पुष्प का भाजन
 (ठा ७) ।
 पिण्डवाइअ वि [पिण्डपातिरु, पैण्डपातिरु]
 भक्त-नामवाला, जिसको भिक्षा में आहार
 की प्राप्ति हो वह (ठा ५, १, कस, श्लोप,
 प्राकृ २) ।
 पिण्डार पु [पिण्डार] गोप, ग्वाला (गा
 ७३१) ।
 पिण्डालु पु [पिण्डालु] कन्द-विशेष (श्रा २०) ।
 पिण्डि देतो पिंडी (भाग, णायामा १, १ टी—
 पत्र ५) ।
 पिण्डिम वि [पिण्डिम] १ पिएड से बना
 हुमा, वहल (पएह २, ५—पत्र १५०) ।
 २ पुत्र-समूहरूप, संघाताकार (णायामा १, १
 टी—पत्र ५, श्लोप) ।
 पिण्डिम वि [पिण्डित] १ एकत्रित, इकट्ठा
 किया हुआ (सूत्रनि १४०, पचा १४, ७,
 मरा) । २ उणित (श्लोप) ।
 पिण्डिया छी [पिण्डिया] १ पिएडी, पिण्डली,
 जानू के नीचे का मातल अवयव (महा) ।
 २ चतुर्नागर वस्तु (श्लोप) । देखो पिंडी ।
 पिंडी यो [पिण्डी] १ लुम्बी, गुच्छा (श्लोप,
 नाग णायामा १, १, उप पु ३६) । २ घर
 ता आधार-रून काष्ठ विशेष, पीड़ा, 'विषडि-
 यपिडीरथनपिपरिलत्रियानणिम्मीआ' (गउड) ।
 ३ अनुनागर वस्तु, गोता, 'पिन्नागपिडी'
 (सूत्र २, ६, २६) । ४ लज्जर-विशेष (नाट-
 टट्ट ३६) । द्वा पिण्डिया ।
 पिंडी यो [दे] नन्तरो (२६, ६७) ।
 पिण्डार न [दे पिण्डार] दाहिम, अन्तार (दे
 ६, ४८) ।

पिण्डेसणा छी [पिण्डैपणा] भिक्षा ग्रहण
 करने की रीति (ठा ७) ।
 पिण्डेसिय वि [पिण्डैषिक] भिक्षा की खोज
 करनेवाला (भाग ६, ३३) ।
 पिण्डोलग वि [पिण्डावलगरु] भिक्षा से
 पिण्डोलगय निर्वाह करनेवाला, भिक्षा का
 पिण्डोलय प्रार्थी, भिक्षु (आचा, उत्त ५, २२,
 सुख ५, २२, सूत्र १, ३, १, १०) ।
 पिण्ड (अप) सक [पि + धा] ढकना । पिण्डउ
 (पिग) । सकृ पिण्डउ (पिग) ।
 पिण्डण (अप) न [पिधान] ढकना (पिग) ।
 पिंसुली छी [दे] मुँह से पवन भरकर बजाया
 जाता एक प्रकार का तुरण-वाद्य (दे ६, ४७) ।
 पिक पुञ्जी [पिक] कोकिल पक्षी (पिग) ।
 छी. 'की (दे ६, ५१) ।
 पिक देखो पक = पक्व (हे १, ४७, पात्र,
 गा ५६५) ।
 पिकल सक [प्र + ईक्ष्] देखना । पिकलइ
 (भवि) । वकृ पिकलत (भवि) । कृ.
 पिकलेयव्य (सुर ११, १३३) ।
 पिकखग वि [प्रेक्षक] निरीक्षक, द्रष्टा (ती
 १०, धर्मवि १५) ।
 पिकखण न [प्रेक्षण] निरीक्षण (राज) ।
 पिकिखय वि [प्रेक्षित] दृष्ट (पि ३६०) ।
 पिग देखो पिक (कुमा) ।
 पिचु पु [पिचु] कार्पास, रुई (दे ६, ७८) ।
 'लया छी 'लता' पूनी, रुई की पूनी (दे
 ६, ५६) ।
 पिचुमद पु [पिचुमन्द] निम्ब वृक्ष, नीम
 का पेड़ (मोह १०३) ।
 पिच } अ [प्रेक्ष] पर-लोक, आगामी जन्म
 पिचा } (श्रा १४, सुपा ५०६, सूत्र १, १,
 १, ११) । देखो पेच ।
 पिचा देखो पिअ = पा ।
 पिच्चिय वि [दे पिच्चित] कूटी हुई छाल
 (ठा ५, ३—पत्र ३३८) ।
 पिच्छ सक [दृश्, प्र + ईक्ष्] देखना ।
 पिच्छइ, पिच्छति, पिच्छ (कम्प, प्रासू १६०,
 ३३) । वकृ. पिच्छत, पिच्छमाण (सुपा
 ३४६, भवि) । कवकृ पिच्छिजमाण (सुपा
 ६२) । सकृ पिच्छिउ, पिच्छिऊग (प्रासू
 ६१, भवि) । कृ. पिच्छिणिज (कम्प, सुर
 १३, २२३, रयण ११) ।

पिच्छ न [पिच्छ] १ पक्ष का अवयव, पक्ष
 का हिस्सा (उवा, पात्र) । २ मयूर-पिच्छ,
 शिखर (णायामा १, ३) । ३ पक्ष, पाँख
 (उप ७६८ टी, गउड) । ४ पूँछ, लागूल
 (गउड) ।
 पिच्छण न [प्रेक्षण] १ दर्शन, अवलोकन
 (श्रा १४, सुपा ५५) ।
 पिच्छणय } न [प्रेक्षण, 'क] तमाशा, खेल,
 पिच्छणय } नाटक, 'पारद्व पिच्छण तहि
 ताव' (सुपा ४८५), 'तो जवणियच्छिडोह
 पिच्छइ अतेउरपि पिच्छणय' (सुपा २००) ।
 पिच्छल वि [पिच्छल] १ स्निग्ध, स्नेह-
 युक्त । २ मक्षण (सण) ।
 पिच्छा छी [प्रेक्षा] निरीक्षण । 'भूमि छी
 [भूमि] रग-मण्डप, रंगमच (पात्र) ।
 पिच्छि वि [पिच्छिन्] पिच्छवाला (श्लोप) ।
 पिच्छिर वि [प्रेक्षिर्] प्रेक्षक, द्रष्टा, देखने-
 वाला (सुपा ७८, कुमा) ।
 पिच्छिल वि [पिच्छिल] १ स्नेह-युक्त,
 स्निग्ध । २ मक्षण, चिकना (गउड, हास्य
 १४०, दे ६, ४६) ।
 पिच्छिली छी [दे] लज्जा, शरम (दे ६, ४७) ।
 पिच्छी छी [दे] चूड़ा, चोटी (दे ६, ३७) ।
 पिच्छी छी [पिच्छिका] पीछी (गा ५७२) ।
 पिच्छी छी [पृथ्वी] १ पृथ्वी, धरित्री,
 धरती (कुमा) । २ बडी इलायची । ३
 पुनर्नवा । ४ कृष्ण जोरक । ५ हिग्रुपत्री (हे
 १, १२८) ।
 पिच्छोला छी [दे] वीन बजाने की कविका
 (सूत्र कृ० चू० पत्र १४६) ।
 पिज्ज सक [पा] पीना । पिज्जइ (हे ४,
 १०) । कृ पिज्जणिज (कुमा) ।
 पिज्ज पुन [प्रेमन्] प्रेम, अनुराग (सूत्र १,
 १६, २, कम्प) ।
 पिज्ज } देखो पा = पा ।
 पिज्जत }
 पिज्जा छी [पेया] यवाणू (पिंड ६२४) ।
 पिज्जाविअ वि [पायित] जिसको पान कराया
 गया हो वह (सुख २, १७) ।
 पिट्ट सक [पीडय्] पीडा करना । पिट्ट ति
 (सूत्र २, २, ५५) ।
 पिट्ट थक [अय्] नीचे गिरना । पिट्टइ
 (पड्) ।

पाअ वगमण न [पादपोपगमन] अनशन-विशेष, मरण विशेष (सम ३३, श्रौप, कप्प, भग)।

पाओवगय वि [पादपोपगत] अनशन-विशेष से मुत्त (श्रौप, कप्प, अत्त)।

पाओस पु [दे. प्रद्वेष] मत्सर, द्वेष (ठा ४, ४—पत्र २८०)।

पाओसिय देखो पाटोसिय (शोध ६६२)।

पाओसिया देखो पाउसिया (धम्म ३)।

पाडविअ वि [दे] जलाद्र, पानी से गीला (दे ६, २०)।

पाडु देखो पडु (पव २४७)। सुअ पु [सुत्त] अग्निव्य का एक भेद (ठा ४, ४—पत्र २८५)।

पाऊ देखो पाग (कप्प)।

पाऊम्म न [प्राकाम्य] योग की आठ सिद्धियो मे एक सिद्धि, 'पाऊम्मपुणेण सुणो भुवि व्व नीरे जलि व्व भुवि चरइ' (कुप्र २७७)।

पाऊर पु [प्राऊर] किला, दुर्ग (उप ४ ८४)।

पाऊरि (शौ) देखो पागय (प्रमौ २४, नाट—वेणी ३८, पि ५३, ८२)।

पागइ देखो पासड (पि २६५)।

पाग पु [पाक] १ पचन-क्रिया (श्रौप, उवा, नुपा ३७४)। २ दैत्य-विशेष (गउड)। ३ विपाक, परिणाम (धम्मस ६६५)। ४ बलवान् दुश्मन (भावम)। सासण पु [शासन] इन्द्र, देव-पति (दे ४, २६५, गउट, पि २०२)। सासणी स्त्री [शासनी] इन्द्रजाल बिया (सूप् २, २, २७)।

पागइअ नि [प्राकृतिक] १ स्वामाविक। २ पृ माधारण मनुष्य, प्राकृत लोक (पव ६१)।

पागड सा [प्र+कटय्] प्रकट करना, गुना करना, व्यक्त करना। वक्क पागडेमाण (ठा ३, ४—पत्र १७१)।

पागड वि [प्रकट] व्यक्त, गुला (उत्त ३६, ४२, श्रौप, उप)।

पागटन न [प्रकटन] १ प्रवट करना। २ नि प्रकट करनेवाला (धम्मस ८२६)।

पागटअ नि [प्रकटित] व्यक्त किया हुआ (उप, श्रौप)।

पागडिड } वि [प्राकर्षिन्, °क] १ अग्र-पागडिडेक } गामी, 'पागट्टी (? ड्ठी) पडुवए वृहवई (णामा १, १)। २ प्रवर्तक, प्रवृत्ति करानेवाला (परह १, ३—पत्र ४५)।

पागडम न [प्रागल्भ्य] घृष्टता, ढिंढाई (सूप् १, ५, १, ५)।

पागडिभ } वि [प्रागल्भिन्, °क] घृष्टता-पागडिभय } वाला, घृष्ट, ढीठ (सूप् १, ५, १, ५, २, १, १८)।

पागय वि [प्राकृत] १ स्वामाविक, स्वभाव-सिद्ध। २ प्रार्थवर्त्त की प्राचीन लोक-भाषा, 'सक्कया पागया चेव' (ठा ७—पत्र ३६३, विसे १४६६ टी, रयण ६४, सुपा १)। ३ पु साधारण बुद्धिवाला मनुष्य, सामान्य लोग, 'जेसि एणामागेत्त न पागता परणवेहिंति' (सुज्ज १६), 'किंतु महामङ्गम्मो दुरवगम्मो पागयजणस्स' (वेइय २५६, सुर २, १३०)। °भासा स्त्री [°भाषा] प्राकृत भाषा (आ २३)। °वागरण न [°व्याकरण] प्राकृत भाषा का व्याकरण (विसे ३४५५)।

पागार पु [प्राकार] किला, दुर्ग (उव, सुर ३, ११४)।

पाजावच्च पु [प्राज्ञापत्य] १ वनस्पति का श्रविष्ठाता देव। २ वनस्पति (ठा ५, १—पत्र २६२)।

पांटप (वृषै) देखो वाडव (वड्)।

पाठीण देखो पाढीण (परह १, १—पत्र ७)।

पाड देखो फाड=पाट्य, 'असिपत्तवणुहि पाडति' (सूत्रनि ७६)।

पाड सक [पातय्] गिराना। पाडेइ (उव)। सक पाडिअ, पाडिऊण (काम १६६, कुप्र ४६)। कवक्क पाडिज्जत्त (उप ३२० टी)।

पाड देखो पाडय = पाटक, 'तो सो विट्ठहाणे सय गणो वेसपाडम्म' (सुपा ५३०)।

पाडयर वि [दे] आसक्त चित्तवाला (दे ६, ३४)।

पाडयर पुं [पाटकर] चोर, तंकर (पाम्, दे ६, ३४)।

पाडण न [पाटने] विदारणे (आवि ६)।

पाडण न [पातन] १ गिराना, पाडना (सूत्रनि ७२)। २ परिभ्रमण, इधर-उधर धूमना, 'लहज्जदरपिडरपडिधारपाडणत्ताण कयकीलो' (कुमा २, ३७)।

पाडणा स्त्री [पातना] ऊपर देखो (विपा १, १—पत्र १६)।

पाडय पुं [पाटक] मुहला, रथ्या, 'चडाल-पाडए गतु' (धम्मवि १३८, विपा १, ८, महा)।

पाडय वि [पातक] गिरानेवाला। स्त्री. °डिआ (मुच्च २४५)।

पाडल पुं [पाटल] १ वर्ण-विशेष, श्वेत और रक्त वर्ण, गुलाबी रंग। २ वि श्वेत-रक्त वर्णवाला (पाम्)। ३ न पाटलिका-गुष्प, गुलाब का फूल (गा ४६६, सुर ३, ५२, कुमा)। ४ पाटला वृक्ष का पुष्प, पाडल का फूल (गा ३०)।

पाडल पुं [दे] १ हस, पक्षि-विशेष। २ वृषभ बैल। कमल (दे ६, ७६)।

पाडलसउण पु [दे] हस, पक्षि-विशेष (दे ६, ४६)।

पाडला स्त्री [पाटला] वृक्ष-विशेष, पाडल का पेड, पाडरि (गा ४५६, सुर ३, ५२, सम १५२), 'चपा य पाडलक्खो जया य वसु-पुज्जपत्थिवो होइ' (पउम २०, ३८)।

पाडलि स्त्री [पाटलि] ऊपर देखो (गा ४६८)। °उत्त, °पुत्त न [°पुत्र] नगर-विशेष, पटना, जो आजकन बिहार प्रदेश का प्रधान नगर है (हे २, १५०, महा, पि २६२, चाव ३६)। °पुत्त वि [°पुत्र] पाटलिपुत्र-सबन्धी, पटना का (पव १११)। °सड न [°पण्ड] नगर-विशेष (विपा १, ७, सुपा ८३)। देखो पाडली।

पाडलिय वि [पाटलित] श्वेत-रक्त वर्णवाला किया हुआ (गउड)।

पाडली देखो पाडलि (उप ४ ३६०)। °पुरे न [°पुर] पटना नगर (धम्मवि ४२)। °वुत्त न [°पुत्र] पटना नगर (वड्)।

पाडव न [पाटव] पटुवा, निपुणता (धम्म १० टी)।

पाडवणे न [दे] पादे-यतन, पैर पर गिरना, प्रणाम-विशेष (दे ६, १८)।

भाग वचता है वह (सूत्र २, ६, २६, २, १, १६, २, ६, २८) ।

पिपीलिअ पुं [पिपीलक] कीट-विशेष, चीकड़ा (कल्प) ।

पिपीलिआ } स्त्री [पिपीलिका] चीदी,
पिपीलिका } चीकड़ा (परह १, ६, जी १६,
शाया १, १६) ।

पिप्पड सक [दे] बडवडाना, जो मन में आवे
सो वकना । पिप्पडइ (दे ६, ५० टी) ।

पिप्पडा स्त्री [दे] ऊर्णा-पिपीलिका (दे ६,
८८) ।

पिप्पडिअ वि [दे] १ जो बडवडायो हो । २
न बडवडाना, निरर्थक उल्लाप, बकवाद (दे
६, ५०) ।

पिप्पय पु [दे] १ मशक (दे ६, ७८) । २
पिशाच, भूत (पात्र) । ३ वि उन्मत्त (दे ६,
७८) ।

पिप्पर पु [दे] १ हंस । २ वृषभ (दे ६,
७६) ।

पिप्परी स्त्री [पिप्पली] पीपर का गाछ
(परह १) ।

पिप्पल पुन [पिप्पल] १ पीपल वृक्ष,
शरवरा (उप १०३१ टी, पात्र, हि १०) ।
२ छुरा, छुरफ (विपा १, ६—पत्र ६६,
शोध ३५६) ।

पिप्पलग वि [पिप्पलक] पीपल के पान का
बना हुआ (आचा २, २, ३, १४) ।

पिप्पलि } स्त्री [पिप्पलि, ली] शोधवि-
पिप्पली } विशेष, पीपर, 'महुपिप्पलिसुठई
मणेगना लाम होइ' (पचा ५, ३०, परह
१७) ।

पिप्पडिअ देखो पिप्पडिअ (पड्) ।

पिप्पिया स्त्री [दे] दात का मेल (एदि) ।

पिप दतो पिअ = पा । पिबामो (पि ४८३) ।
सह पिपित्ता (आचा) ।

पिप्य न [दे] जल, पानी (दे ६, ४६) ।

पिप्म पु [प्रेमन्] प्रेम, प्रीति, अनुराग (पात्र,
सुर २, १७२, रंसा) ।

पिगल पु [पिगल] १ वृक्ष-विशेष, निरलो
ना पेड़ । २ न फर विशेष, खिलो, खिलो
(दस ५, २, २४) ।

पियास (अप) स्त्री [पिपासा] प्यास (भवि) ।

पिरिडी स्त्री [दे] शकुनिका, चिडिया (दे ६,
४७) ।

परिपिरिया देखो परिपिरिया (राज) ।

पिरिली स्त्री [पिरिली] १ गुच्छ-विशेष,
वनस्पति-विशेष (परह १) । २ वाद्य-विशेष
(राज) ।

पिल देखो पील । कर्म पिलजइ (नाट) ।

पिलखु } पुं [पलक्ष] १ वृक्ष-विशेष,
पिलखु } पिलखन, पाकड़ का पेड़ (सम
१५२, शोध २६, पि ७४) । २ एक तरह
का पीपल वृक्ष, 'पिलखू पिप्पलभेदो' (निचू
३) ।

पिलण न [दे] पिच्छल देश, चिकनी जगह
(दे ६, ४६) ।

पिला देखो पीला (पि २२६) ।

पिलाग न [पिटक] फोडा, फुनसी (सूत्र १,
३, ४, १०) ।

पिलिखु देखो पिलखु (विचार १४८) ।

पिलिहा स्त्री [प्लीहा] अग-विशेष, पिलही,
तिल्ली (तदु ३६) ।

पिलुअ न [दे] शूत, छोक (षड्) ।

पिलुक } देखो पिलखु (पि ७४, परह
पिलुख } १—पत्र ३१) ।

पिलुखु देखो पिलखु (आचा २, १, ८, ३) ।

पिलुट्ट वि [प्लुष्ट] दग्ध (हे २, १०६) ।

पिलोस पुं [प्लोप] दाह, दहन (हे २, १०६) ।

पिल देखो पेड़ = लिप् । पिलइ (भवि) ।

पिल सक [प्र + ईर्य्] १ प्रेरणा करना ।
२ प्रवृत्त करना । पिलेइ (वव १) ।

पिलग न [दे] पक्षी का वचा ।

पिलण न [प्रेण] प्रेरणा (ज ३) ।

पिलणा स्त्री [प्रेणा] प्रेरणा (कल्प) ।

पिलि स्त्री [दे] यान विशेष (दसा ६) ।

पिलिअ वि [क्षिप्त] फँका हुआ (पात्र, भवि,
कुमा) ।

पिलिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की गई
हो वह (सुपा ३३१) ।

पिलिरी स्त्री [दे] १ वृक्ष-विशेष, गरहुत वृक्ष ।
२ चीरो, कीट-विशेष । ३ धर्म, पनीना (दे
६, ७६) ।

पिलुग (दे) देखो पिलुअ (वव २) ।

पिलह न [दे] छोटे पक्षी के तुल्य (दे ६,
४६) ।

पिव देखो इव (हे २, १८२, कुमा, महा) ।

पिव सक [पा] पीना । पिवइ (पिंग) । भूका
अपिवित्था (आचा) । कर्म. पिवीअति (पि
५३६) । सकृ पिविअ, पिविइत्ता,
पिवित्ता (नाट, ठा ३, २, महा) । हेइ
पिविई, पिवित्तए (आक ४२, श्रौप) ।

पिवण देखो पिअण = (दे) (भवि) ।

पिवासय वि [पिपासक] पीने की इच्छा-
वाला (भग—अत्य) ।

पिवासा स्त्री [पिपासा] प्यास, पीने की
इच्छा (भग, पात्र) ।

पिवासिय वि [पिपासित] तुषित (उवा,
वै) ।

पिपीलिआ देखो पिपीलिआ (उव, स ४२०,
भा ४६) ।

पिठव देखो पिठव (षड्) ।

पिस सक [पिष्] पीसना । पिसइ (षड्) ।

पिसग पु [पिशाङ्ग] १ पिगल वण, मठियारा
रंग । २ वि पिगल वणवाला (पात्र, कुप्र
१०५, ३०६) ।

पिसडि [दे] देखो पसडि (सुपा ६०७, कुप्र
६२, १४५) ।

पिसड पु [पिशाच] पिशाच, व्यन्तर-भौतिक
देवों की एक जाति (हे १, १६३, कुमा,
पात्र, उप २६४ टी, ७६८ टी) ।

पिसाजि वि [पिशाचिन्] भूवाविष्ट (हे १,
१७७, कुमा, पड्, चड) ।

पिसाय देखो पिसइ (हे १, १६३, परह १,
४, महा, इक) ।

पिसिअ न [पिशित] मांस (पात्र, महा) ।

पिसुअ पुत्री [पिशुक] सुद्र कीट-विशेष ।
स्त्री 'या (राज) ।

पिसुण सक [कथय्] कहना । पिसुणइ,
पिसुणइ, पिसुणवि, पिसुणति, पिसुणु (हे
४, २, गा ६८५, सुर ६, १६३, गा ५५६,
कुमा) ।

पिसुण पु [पिशुन] खल, दुर्जन, पर-निन्दक,
खलखोर (सुर ३, १६, प्रासू १८, गा
३७७, पात्र) ।

पाडहिग } वि [पाटहिक्] ढोल बजानेवाला,
पाडहिय } ढोलिया, ढोलकिया (स २१६) ।
पाडहुक वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया,
जामिनदार (पड्) ।
पाडिअ वि [पाटित] फाडा हुआ, विदारित
(स ६९९) ।
पाडिअ वि [पातित] गिराया हुआ (पाम्,
प्राप् २, अवि) ।
पाडिअग पु [दे] विश्राम (दे ६, ४४) ।
पाडिअज्भ पुं [दे] पिता के घर से बघू को
पति के घर ले जानेवाला (दे ६, ४३) ।
पाडिआ देखो पाडय = पातक ।
पाडिएक } न [प्रत्येक] हर एक (हे २,
पाडिक } २१०, कप्प, पाम्, णाया १,
१६, २, १, सुअनि १२१ टी, कुमा), 'एणे
जोवे पाडिकणण सरीरण' (ठा १—पत्र
११९) ।
पाडितिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष
(राय ५४) ।
पाडिचरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना
(उप पु ३४६) ।
पाडिच्छय वि [प्रतीप्सक] ग्रहण करनेवाला
(सुअ २, १३) ।
पाडिज्जत देखो पाड = पातय् ।
पाडिपह न [प्रतिपथ] अभिमुख, सामने
(सुअ २, २, ३१) ।
पाडिपहिअ देखो पडिपहिअ (सुअ २, २,
३१) ।
पाडिपिद्धि ली [दे] प्रतिस्पर्धा (पड्) ।
पाडिपवग पु [पारिप्लवक] पक्षि-विशेष
(पउम १४, १८) ।
पाडिप्फद्धि वि [प्रतिस्पर्धिन्] स्पर्धा करने-
वाला (हे १, ४४, २०६) ।
पाडियतिय न [प्रात्यन्तिक] अभिनय-विशेष
(राज) ।
पाडियक देखो पाडिएक (औप) ।
पाडिवय वि [प्रातिपद्] १ प्रतिपद्-सक्न्धी,
पडवा तिथि का, 'जह चदो पाडिवओ पडिपुओ
सुकपक्खम्मि' (उवर ६०) । २ पुं एक
आवी जैन आचार्य (विचार ५०६) ।
पाडिवया ली [प्रतिपत्] तिथि-विशेष, पक्ष
को पहली तिथि, पडवा (सम २९, णाया १,
१०, हे १, १५, ४४) ।

पाडिवेसिय वि [प्रातिवेरिमक] पडोसी ।
ली. १या (सुपा ३१४) ।
पाडिसार पु [दे] १ पडुता, निपुणता । २
वि पट्ट, निपुण (दे ६, १६) ।
पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि = प्रतिसिद्धि (हे
१, ४४, प्राप्र) ।
पाडिसिद्धि ली [दे] १ स्वर्धा (दे ६, ७७,
कप्प, कुप्र ४९) । २ समुदाचार । ३ वि.
सदश, तुल्य (दे ६, ७७) ।
पाडिसिरा ली [दे] खलोन-युक्ता (दे ६, ४२) ।
पाडिस्सुइय न [प्रातिश्रुतिक] अभिनय का
एक मेद (राज) ।
पाडिहच्छी } ली [दे] शिरो-माल्य, मस्तक-
पाडिहरथी } स्थित पुष्पमाला (दे ६, ४२,
राज) ।
पाडिहारिय वि [प्रातिहारिक] वापस देने
योग्य वस्तु (विसे ३०५७, औप, उवा) ।
पाडिहेर न [प्रातिहार्य] १ देवता-वृत्त प्रती-
हार-कर्म, देवकृत पूजा-विशेष (औप, पत्र
३९), 'इय सामइय भावा इहइपि नागदत्त-
नरनाहो । जाओ सपाडिहेरो' (सुपा ५४४) ।
२ देव-सान्निध्य (भत ९६), 'बहुण सुरेहिं
कर्य पाडिहेर' (श्रु ६४, महा) ।
पाडो ली [दे] भैंस की बडिया, पाडो या
पडिया गुजराती में 'पाडो' (गा ६५) ।
पाडुनी ली [दे] बणो—जखमवाले की
पालकी (दे ६, ३९) ।
पाडुगोरि वि [दे] १ विपुण, गुण-रहित ।
२ मद्य में आसक्त । ३ ली मजवूत वेष्टन-
वाली ढाड, 'पाडु गोरि च वृत्तिदोषं यस्या
निवेष्टन परित' (दे ६, ७८) ।
पाडुक्क पु [दे] समालम्भन, चन्दन आदि का
शरीर में उपलेप । २ वि पट्ट, निपुण (दे ६,
७६) ।
पाडुच्चिय वि [प्रातीतिक] किसी के आश्रय
से होनेवाला, अपेक्षिक । ली १या (ठा २,
१, नव १८) ।
पाडुची ली [दे] तुरंग-मण्डन, घोडे का
सिंघार (दे ६, ३९, पाम्) ।
पाडुहुअ वि [दे] प्रतिभू, मनौतिया, जामिन-
दार (दे ६, ४२) ।
पाडेक देखो पाडिक (सम्म ५५) ।

पाडोस पु [दे] पडोस, प्रातिवेरिमकता (आ
२७) ।
पाडोसिअ वि [दे] पडोसी, पडोसिया (सिदि
३१२, आ २७, सुपा ५५२) ।
पाड सक [पाठय्] पढाना, अध्ययन करना ।
पाडइ, पाडेइ (प्राक् ६०, प्राप्र) । कर्म पाडिइ
(प्राप्र) । सक पाडिऊण, पाडेऊण (प्राक्
६१) । हेक् पाडिउ, पाडेउ (प्राक् ६१) ।
क पाडणिज्ज, पाडिअन्व, पाडेअन्व
(प्राक् ६१) ।
पाड पुं [पाठ] १ अध्ययन, पठन (शोधभा
७१, विसे १३८४, सम्मत १४०) । २ शाब्,
आगम । ३ शाब् का उल्लेख, 'पाडो ति वा
सत्य ति वा एण्डा' (आइ १) । ४ अध्यापन,
शिक्षा (उप पु ३०८, विसे १३८४) ।
पाड देखो पाडय = पाटक (आ ९३ टी) ।
पाडतर न [पाठान्तर] भिन्न पाठ (आवक
३११) ।
पाडग वि [पाठक] १ उच्चारण करनेवाला,
'पाडिय मगलपाडोहिं' (कुप्र ३२) । २
अध्यासी, अध्ययन करनेवाला । ३ अध्यापन
करनेवाला, अध्यापक, 'वत्थुपाडगा', 'सुमिण
पाडगाण', 'लक्खणसुमिणपाडगाण' (पमवि
३३, णाया १, १, कप्प) ।
पाडण न [पाठन] अध्यापन (उप पु १२८,
प्राक् ६१, सम्मत १४२) ।
पाडणया ली [पाठना] ऊपर देखो (पत्रभा
४) ।
पाडय देखो पाडग (कप्प, स ७, णाया १,
१—पत्र २०, महा) ।
पाडव वि [पार्थिव] पृथिवी का विकास
पृथिवी का, 'पाडव सरीरं हिचा' (उत्त ३,
१३) ।
पाडा ली [पाठा] वनस्पति-विशेष, पाड, पाड
का गाछ (परण १७) ।
पाडाव सक [पाठय्] पढाना, अध्यापन
करना । पाडावेइ (प्राप्र) । सक पाडाविऊण,
पाडावेऊण (प्राक् ६१) । हेक् पाडाविउ,
पाडावेउ (प्राक् ६१) । क पाडावणिज्ज,
पाडाविअन्व (प्राक् ६१) ।
पाडावअ वि [पाठक] अध्यापक (प्राक् ६०) ।
पाडावण न [पाठन] अध्यापन (प्राक् ६१) ।

पीठ—पुंल्ल

पीठ न [दे] १ ईल वेरले का यन्त्र (दे ६, ५१) । २ समूह, युथ, 'उद्विय वण्णइदपीठ, पण्डा विसो विसो (१ति) कम्पडिया' (स २३३) । ३ पीठ, शरीर के पीछे का भाग, 'हृत्पिपीठसमाख्खो' (त्रि ६६) ।

पीठग } न [पीठक] देखो पीठ = पीठ
पीठय } (कस, गच्छ १, १०, दस ७, २८) ।
पीठरखण्ड न [पीठरखण्ड] नर्मदा तीर पर स्थित एक प्राचीन जैन तीर्थ (पद्य ७७, ६४) ।

पीठाणिय न [पीठानीक] अरव-सेना (ठा ५, १—पत्र ३०२) ।

पीठिआ छी [पीठिआ] आसन-विशेष, मठ, 'आसदो पीठिआ' (पात्र) । देखो पेडिया ।

पीठी छी [दे पीठिका] काष्ठ-विशेष, घर का एक आधार-काष्ठ, गुजराती में 'पीठिअ', 'तत्तो नियत्तिअण सत्तु पयाइ जाव पहरेइ । ता उवरिपीठिअलणे खण्णेण खडकिअ तत्य' (धमनि ५६) ।

पीण सक [पीनय] पुष्ट करना । पीणति (राय १०१) ।

पीण सक [पीणय] छुड़ करना । कू देखो पीणणज्ज ।

पीण वि [दे] चतुरस्र-चतुष्कोण (दे ६, ५१) ।

पीण वि [पीन] पुष्ट, मासल, उपचित (हे २, १५४, पात्र, कुमा) ।

पीणण न [पीणन] घुमा करना (धमनि १५८) ।

पीणणिअ वि [पीणणीय] प्रीति जनक (श्रौप, मप्प, पण १७) ।

पीणाइय वि [दे. पीनायिक] गर्ब से निर्हुत, गर्ब नै निमा हुआ, 'पीणाइयविरतरडियसइण कोडयते न अरस्तल' (णामा १, १—पत्र २३) ।

पीणाया छी [दे पीनाया] गर्व, अहंकार (राया १, १) ।

पीणिअ वि [पीणित] १ तोपित (सण) ।

२ उचित, परिवृद्ध (दउ ७, २३) । ३ पु-व्यक्ति-प्रविद्ध योग विशेष, जो पहले सूर्य का अस्त हो जाने पर या नक्षत्र के साथ हात्तर बार में सूत्र-मूर्ध आदिके साथ उपचय का प्राप्त हुआ हो वह योग (मुग्ग १२) ।

पीणिम पुंल्लि [पीनता] पुष्टता, मासलता (हे २, १५४) ।

पीयमाण देखो पा = पा ।

पीयमाण देखो पी = पी ।

पीरिपीरिया छी [दे] वाद्य विशेष (राय ४५) ।

पील सक [पीलय] १ पीलना, पेचना, ढबाना । २ पीडा करना, हैरान करना । पीलइ, पीलेइ (घात्वा १४५, पि २४०) । कवक, पीलिअत (आ ६) ।

पीलण न [पीलन] ढबाव, पीलन, पेचना, 'भाणसिणीण माणो पीलणमीअ अ्व हिअमाहि' (काप्र १६६), 'अतपीलणकम्मो' (उवा) ।

पीला देखो पीडा (उप ४३६, सुपा ३५८) ।

पीलावय वि [पीडक] १ पेरेनेवाला । २ पुं, तेलो, यत्र से तेल निकालनेवाला (वज्जा ११०) ।

पीलिअ वि [पीडित] पीला या पेरा हुआ (श्रौप, ठा ५, ३, उव) ।

पीलिअ वि [पीडावत्] दाबवाला, दाबने से बना हुआ (वख आदि की आकृति) (दसनि २, १७) ।

पीलु पु [पीलु] १ वृक्ष-विशेष, पीलु का पेड़ (पण १, वज्जा ४६) । २ हाथी (पात्र, स ७३५) । ३ न. वृक्ष, 'एणहु बहुनाम दुइ पम्पो पीलु खीर च' (पिड १३१) ।

पीलुअ पु [दे. पीलुक] शावक, वच्चा, 'तडसठिअणीडेकतपीलुआरकखण्णेकदिएणमणा' (गा १०२) ।

पीलुदु वि [दे प्लुट] देखो पिलुदु (दे ६, ५१) ।

पीवर वि [पीवर] उपचित, पुष्ट (णामा १, १, पात्र, सुपा २६१) । 'गवभा छी [गर्भा] जो निकट भविष्य में ही प्रसव करनेवाली हो वह छी (श्रीधमा ८३) ।

पीवल देखो पीअ = पीत (हे १, २१३, २, १७३, कुमा) ।

पीस सक [पिप्] पीसना । पीसइ (पि ७६) । वक. पीसत (पिड ५७४, राया १, ७) । सक पीसिअण (कुप्र ४५) ।

पीसण न [पेवण] १ पीसना, ढलना (पण १, १, उप वृ १४०, रयण १८) । २ वि. पीसनेवाला (सुअ १, २, १, १२) ।

पीसय वि [पेवक] पीसनेवाला (सुपा ६३) ।

पीह सक [स्पृह, प्र + ईह] अभिलाषा करना, चाहना । पीहति, पीहेज्जा (श्रौप, ठा ३, ३—पत्र १४४) ।

पीहण पु [पीठक] नवजात शिशु को पीलाइ जाती एक वस्तु (उप ३११) ।

पुं छी [पुर] शरीर (विसे २०६५) ।

पुअ न [प्लुत] १ तिरंग गति । २ झोंपना, कम्प-गति, 'जुअम्मो पू (? पु) यवाएहि' (विसे १४३६ टी) । 'जुअ न [युअ] अथम युअ का एक प्रकार (विसे १४७७) ।

पुअड पुं [दे] तरण, युवा (दे ६, ५३, पात्र) ।

पुआइ वि [दे] १ तरण, युवा (दे ६, ८०) । २ उन्मत्त (दे ६, ८०, षड्) । ३ पु पिशाच (दे ६, ८०, पात्र, षड्) ।

पुआइणी छी [दे] १ पिशाच-गृहीत छी, भूताविष्ट महिला । २ उन्मत्त छी । ३ कुलटा, व्यभिचारिणी (दे ६, ५४) ।

पुआव सक [प्लावय] ले जाना । सक. पुयावइत्ता (ठा ३, २) ।

पुं पु [पुस्] पुष्प, मर्द (पि ४१२, धम्म १२ टी) । देखो पुंगव, पुनाग, पुवड आदि ।

पुल पु [पुल्ल] १ वाण का अग्र भाग, 'तस्स य सरस्स पुल विअइ अन्नेण तिकखवाणेण' (धमनि ६७, उप वृ ३६५) । २ न. देव-चिमान-विशेष (सम २२) ।

पुखणग न [दे प्रोहणक] जुमाना, विवाह की एक रीति, गुजराती में 'पोखणु' (सुपा ६५) ।

पुखिअ वि [पुद्धित] पुख-युक्त किया हुआ, 'वणुहे तिकखो सरो पुखिअो' (कप्पू) ।

पुगल पुं [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (भवि) ।

पुगव वि [पुज्जव] श्रेष्ठ, उत्तम (सुपा ५, ८०, शु ४१, गठ) ।

पुछ सक [प्र + उच्छ] पोछना, सफा करना । पुछइ (आक ६७, हे ४, १०५) । कू पुंछणीअ (पि १८२) ।

पात } देखो पाय = पात्र (सूत्र १, ४, २, पाद } परह २, ५—पत्र १४८) । बंधन न [वन्धन] पात्र बांधने का बन्ध-खण्ड, जैन-मुनि का एक उपकरण (परह २, ५) ।

पाद देखो पाय = पाद (विपा १, ३) । सम वि [सम] गेय-विशेष (ठा ७—पत्र ३६४) । षोडशपय न [षोडशपद] दृष्टिवाद नामक ब्राह्मण जैन आगम-ग्रन्थ का एक प्रतिपाद्य विषय (सम १२८) ।

पादु } देखो पाठ = प्रादुस् । पादुरेसए (पि ३४१) । पादुरकासि (सूत्र १, २, २, ७) ।

पादो देखो पाओ = प्रातस् (सुज १, ६) ।

प्रादोसिय वि [प्रादोपिक] प्रदोष-काल का, प्रदोष-सबन्धी (श्लोष ६५८) ।

पादव देखो पायव (गा ५३७ अ) ।

पाधन्न देखो पाहन्न (धर्मस ७८६) ।

पाधार सक [स्या + गम्, पाद + धारय] पधारना, 'पाधारह निष्णोहे' (आ १६) ।

पावद्ध वि [पावद्ध] विशेष बँवा हुआ, पाशित (निचू १६) ।

पाभाइय } वि [प्राभातिक] प्रभात-
पाभातिय } सबन्धी (श्लोषभा ३११, अनु ६, धर्मवि ५८) ।

पाम सक [प्र + आप्] प्राप्त करना, गुजराती मे 'पामदु' ।

'कारवेद पडिम जिणाय जिन्नरोगदोसमोहारणं । सो अन्नभवे पामइ भवमलए धम्मवररणए ॥' (रणए १२) । कर्म, पामिजइ (सम्मत्त १४२) ।

पामण्ण न [प्रामाण्य] प्रमाणाता, प्रमाणापन (धर्मस ७५) ।

पामद्दा स्त्री [दे] बीनो पैर से चान्य-मर्दन (दे ६, ४०) ।

पामन्न देखो पामण्ण (विसे १४६६, चेइय १२४) ।

पामर पु [पामर] कृपोबल, कर्पक, खेती का काम करनेवाला गृहस्थ, 'पामरगहवइसेआण-कासया दोखया हलिआ' (पाम, वजा १३४, गड, दे ६, ४१, सुर १६, ५३) । २ हलकी जाति का मनुष्य (कम्पू, गा २३८) । ३ मूर्ख-बेवकूफ, अज्ञानी (गा १६४), 'को नाम पामरं मुत्तु वचइ दुदमकदमे' (आ १२) ।

पामा स्त्री [पामा] रोग विशेष, खुजली, खाप (सुपा २२७) ।

पामाड पु [पद्माट] पमाड, पमार, पवाड, चकवड, वृक्ष-विशेष (पाम्र) ।

पामिच्च सक [दे] उवार लेना । पामिच्चेज (आचा २, २, २, ३) ।

पामिच्च न [दे अपमित्त] १ धार लेना, वापस देने का वादा कर ग्रहण करना । २ वि जो उधार लिया जाय वह (पिड ६२, ३१६, आचा, ठा ३, ४, ६, औप, परह २, ५, पव १२५, पचा १३, ५, सुपा ६४३) । पामिच्चिय वि [दे] उधार लिया हुआ (आचा १, १०, १) ।

पामुक्क वि [प्रमुक्क] परित्यक्त (पाम्र, स ६५७) ।

पामूल न [पादमूल] पैर का मूल भाग, पाँव का अग्र भाग (पउम ३, ६, सुर ८, १६६, पिड ३२८) । देखो पायमूल = पादमूल ।

पामोक्ख देखो पसुह = प्रमुव (आया १, ५, ८, महा) ।

पामोक्ख पु [प्रमोक्ख] मुक्ति, छुटकारा (उप ६४८ टी) ।

पाय पु [दे] १ रथ-चक्र, रथ का पहिया (दे ६, ३७) । २ फणी, साँप (षड्) ।

पाय पुं [पाक] १ पाचन-क्रिया । २ रसोई (प्राक्क १६, उप ७२८ टी) ।

पाय वि [पाक्य] पाक-योग्य (दस ७, २२) । पाय देखो पाव (चड) ।

पाय पु [पात्] १ पतन (पचा २, २५, से १, १६) । २ सबन्ध, 'पुणो पुणो तरलविडि-पाएहि' (सुर ३, १३८) ।

पाय पु [पाय] पान, पीने की क्रिया (आ २३) ।

पाय पु [पाद] १ गमन, भति (आ २३) । २ पैर, चरण, पाँव, 'चलया कमा य पामा' (पाम्र, आया १, १) । ३ पय का चोया हिस्सा (हे ३, १३४, पिग) । ४ किरण, 'असू रस्सी पामा' (पाम्र, अजि २८) । ५ सानु, पर्वत का कटक (पाम्र) । ६ एकाग्रता (सबोध ५८) । ७ छ मयुलो का एक नाम (इक) । 'कच्चणिया टी [काञ्चनिका] पैर प्रकालन का एक सुवर्ण-पात्र (राज) ।

'कवल पुन [कम्बल] पैर पोछने का बन्न खण्ड (उत्त १७, ७) । 'कुक्कुट पु [कुक्कुट] कुक्कुट-विशेष (आया १, १७ टी—पत्र २३०) । 'घाय पुं [घात] चरण प्रहार (पिग) । 'चार पुं [चार] पैर से गमन (आया १, १) । 'चारि वि [चारि] पैर से यातायात करनेवाला, पाद विहारी (पउम ६१, १६) । 'जाल, 'जाला न [जाल, क] पैर का आभूषण-विशेष (औप, अजि ३१, परह २, ५) । 'त्ताण न [त्राण] सूता, पगरखी (दे १, ३३) । 'पल्ल पु [प्रलम्ब] पैर तक लटकनेवाला एक भाग पण (आया १, १—पत्र ५३) । 'पीठ देखो 'वीठ (आया १, १, महा) । 'पुष्पण न [प्रोञ्जन] रजोहरण, जैन साधु का एक उपकरण (आचा, श्लोष ५११, ७०६, भग उवा) । 'पण्डण न [पतन] पैर पर गिरना, प्रणाम-विशेष (पउम ६३, १८) । 'मूल न [मूल] १ देखो पामूल (कस) । २ मनुष्या की एक साधारण जाति, नर्तको की एक जाति, 'समागयाइ पायमूलाइ', 'पुलइन्नपाणो पायमूलेहि पत्तो रहसमीवे', 'पणविपाइ पायमूलाइ', 'सदावियाइ पायमूलाइ', 'पण चेतोहि पायमूलेहि' (स ७२१, ७२२, ७३४) । 'लेदणिआ स्त्री [लेपनिका] पैर पोछने का जैन साधु का एक काष्ठमय उपकरण (श्लोष ३६) । 'वदय वि [वन्दक] पैर पर गिरकर प्रणाम करनेवाला (आया १, १३) । 'वडण न [पतन] पैर पर गिरना, प्रणाम विशेष (ह १, २७०, कुमा, सुर २, १०६) । 'वडिया स्त्री [वृत्ति] पाद पतन, पैर छूना, प्रणाम-विशेष, 'पायवडियाए वेमकुसव पुच्चवि' (आया १, २, सुपा २५) । 'विहार पु [विहार] पैर से गति (भग) । 'वीड न [पीठ] पैर रखने का आसन (हे १, २७०, कुमा, सुपा ६८) । 'सीसग न [शीर्षक] पर के ऊपर का भाग (राय) । 'उलअ न [उल्ल] छन्द-विशेष (पिग) ।

पाय देखो पत्त = पात्र (आचा, श्लोष, आगम ३६, १७४) । 'कसरिआ स्त्री [कसरि] जैन साधुओं का एक उपकरण, पात्र-प्रदान करने का कपड़ा (श्लोष ६६८, विसे २५५२ टी) ।

३२) । °भव पुं [°भव] फिर से उत्पत्ति, फिर से जन्म-ग्रहण (चैद्य ३५७, श्रौप) । °भू स्त्री [°भू] फिर से विवाहित स्त्री, जिसका पुनर्लंगन हुआ हो वह महिला, 'अस्थि पुण्णमूकणो ति विवाहिया पच्छन्' (कुप्र २०८, २०९) । °रवि, °रवि अ [°अपि] फिर भी (उवा, उक्त १०, १६, १९) । °राविति स्त्री [°आवृत्ति] पुन आवृत्तन (पडि) । °रुत वि [°उक्त] फिर से कहा हुआ । २ न पुनर्वक्ति (चैद्य ५२८) । °वि अ [°अपि] फिर भी (सक्ति १९, प्राकृ ८७) । °वसु पु [°वसु] १ नक्षत्र-विशेष (सम १०, ६९) । २ श्राठवें वासुदेव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५३, पत्रम २०, १७२) ।

पुण (अप) देखो पुण्ण = पुण्य । °मत वि [°मन] पुण्यशाली (पिम) ।

पुणअ सक [टग] देखना । पुणअइ (धात्वा १४५) ।

पुणइ पु [दे] थपच, चारुडाल (दे ६, ३८) ।

पुणण वि [पवन] पवित्र करनेवाला । स्त्री, °णी (कुमा) ।

पुणरुत्त } अ इत् करण, बारवार, फिर-फिर-पुणरुत्त } अइ मुणइ पमुलि एीसहेहि अगेहि पुणरुत्त (ह १, १७९, कुमा), 'ए वि तह ऐमरअइंवि हरंति पुणरुत्तारअरसिआइ' (गा २७६) ।

पुणा अ दलो पुण = पुनर् (पि ३४३, पुणाइ | दे १, ६५, कुमा, पत्रम ६, ९७, पुणाड | उवा) ।

पुणु (मा) दलो पुण = पुनर् (कुमा, पि ३४२) ।

पुणो ऽना पुण = पुनर् (श्रौप, कुमा, प्राकृ ८७) ।

पुणोत्त ऽगो पुण रुत्त, पुणरुत्त (प्राकृ ३०) ।

पुणोत्त ऽक [प्र-नोदय] १ प्रेरणा करना । २ प्रवृत्त कराना । पुणोल्लयामो (उत्त १२, ४०) ।

पुण्ण न [पुण्य] १ शुभ फल, मुक्त (श्रौप, मत्, प्राकृ ७५, पात्र) । २ दा उवाच, उवाच । मद् पुण्ण (१ एण) कुरी (१ हिम)

छट्टभत्तस एगट्टा' (सवोष ५८) । ३ वि पवित्र, 'थाणुपियाजलपुण्ण' (कुमा) । कलसा स्त्री [°कलशा] लाट देश के एक गाँव का नाम (राज) । °घण पुं [°घन] विद्याधरो का एक स्वनाम ख्यात राजा (पत्रम ५, ६५) । °मत, °मत्त वि [°वत्] पुण्यवाला, भाग्यवान् (हे २, १५९, चंड) । देखो पुन्न = पुण्य ।

पुण्ण वि [पूर्ण] १ सपूर्ण, भरपूर, पूरा (श्रौप, भग, उवा) । २ पु द्वीपकुमार देवो का दाक्षिणात्य इन्द्र (इक) । ३ इक्षुवर समुद्र का अधिष्ठायाक देव (राज) । ४ तिथि-विशेष, पक्ष की पाँचवी, दसवी और पनरहवी तिथि (सुज १०, १५) । ५ पुन शिखर-विशेष (इक) । °कलस पु [°कलशा] सपूर्ण घट (ज १) । °घोस पुं [°घोष] ऐरवत वर्ष का एक भावी जिन-देव (सम १५४) । °चद् पु [°चन्द्र] १ सपूर्ण चन्द्रमा । २ विद्याधर वंश के एक राजा का नाम (पत्रम ५, ४४) । °पभ पु [°प्रभ] इक्षुवर द्वीप का अधिपति देव (राज) । °भद् पु [°भद्र] १ स्वनाम-ख्यात एक गृह-पति, जिसने भगवान् महावीर के पास दोषा लेकर मुक्ति पाई थी (अत) । २ यक्ष-निकाय का एक इन्द्र (४, १) । ३ पुन अनेक कूट-शिखरो का नाम (इक) । ४ यक्ष का चैत्य-विशेष (श्रौप, विपा १, १, उवा) । °मासी स्त्री [°मासी] पूर्णिमा तिथि (दे) । °सेण पु [°सेन] राजा श्रेणिक का पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दोषा ली थी (अनु) । देखो पुन्न = पूर्ण ।

पुण्णमासिणी स्त्री [पूर्णमासी] तिथि-विशेष, पूर्णिमा (श्रौप, भग) ।

पुण्णवत्त न [दे] आनन्द से हृत वस्त्र (दे ६, ५३, पात्र) ।

पुण्णा स्त्री [पूर्णा] १ तिथि-विशेष, पक्ष की ५, १० और १५ की तिथि (सवोष ५४, सुज १०, १५) । २ पूर्णमद्र और मणिमद्र इन्द्र की एक महादेवी—अग्र-महिषी (इक, एया २), 'पुण्णमद्दस्स ए जक्खिदस्स जम्बखरओ चत्तारि अग्रमहिषीओ पण्णत्ताओ त जहा—पुत्ता (१ एण) बहुपुत्तिमा उत्तमा

तारगा, एव माणिमद्दस्सवि' (ठा ४, १—पत्र २०४) ।

पुण्णाग } देखो पुन्नाग (पत्रम ४३, ३९, से पुण्णाम) ६, ५९, हे १, १९०, पि २३१) ।

पुण्णाली स्त्री [दे] असती, कुलटा, पुश्चली (दे ६, ५३, षड्) ।

पुण्णाह पुन [पुण्याह] १ पुण्य दिन, शुभ दिवस (गा १६५, गडड) । २ वाद्य-विशेष, 'पुण्णाहत्तरेण' (स ४०१, ७३४) ।

पुण्णमसी स्त्री [पूर्णमासी] पूर्णिमा (सवोष ३६) ।

पुण्णिमा स्त्री [पूर्णमा] तिथि-विशेष, पूर्णमासी (काप्र १९४) । °यद पुं [°चन्द्र] पूर्णिमा का चन्द्र (महा, हेका ४८) ।

पुण्णिमासिणी देखो पुण्णमासिणी (सम ६६, आ २९, सुज १०, ६) ।

पुत्त पु [पुत्र] लडका (ठा १०, कुमा, सुपा ६९, ३३४, प्रासू २७, ७७, एया १, २) । °वई स्त्री [°वती] लडकावाली स्त्री (सुपा २८१) ।

पुत्तजीवय पु [पुत्रजीवक] वृक्ष-विशेष, पुतजीया, जियापोता का पेड़, 'पुत्तजीवअरिट्ठे' (पण्ण १—पत्र ३१) । २ न जियापोता का बीज, 'पुत्तजीवयमालालकिण्ण' (स ३३७) ।

पुत्तय पु [पुत्रक] देखो पुत्त (महा) ।

पुत्तरे पुत्ती [दे] योनि, उत्पत्ति-स्थान, 'पुत्तरे योनौ' (सक्ति ४७) ।

पुत्तलय पु [पुत्रक] प्रतला (सिरि ८६१, ६२, ६४) ।

पुत्तलिया } स्त्री [पुत्रिका] शालमज्जिका, पूतली पुत्तली } (पात्र, कुम्मा ६, प्रवि १३, सुपा २६९, सिरि ८१५) ।

पुत्तह देखो पुत्त (प्राकृ ३५) ।

पुत्ताणुपुत्तिय वि [पौत्रानुपुत्रिक] पुत्र-पौत्रादि के योग्य, 'पुत्ताणुपुत्तियं विट्ति कमेति' (एया १, १—पत्र ३७) ।

पुत्तिआ स्त्री [पुत्रिका] १ पुत्री, लडकी (अमि १७८) । २ पूतली (दे ६, ९२, कुमा) ।

पुत्तिल्ल देखो पुत्त (प्राकृ ३५) ।

पुत्ती स्त्री [पुत्री] लडकी (कण्णु) ।

पार देखो पावार (हे १, २६८, कुमा) ।
 पारक न [दे] मदिरा नापने का पात्र (दे ६, ४१) ।
 पारगम वि [पारगम] १ पार जानेवाला ।
 २ पार-गमन (आचा) ।
 पारगय वि [पारगत] पार-प्राप्त (कुप्र २१) ।
 पारचि वि [पाराञ्चि] सर्वोत्कृष्ट—दशम प्रायश्चित्त करनेवाला; 'पारचौए दोएहवि' (बृह ४) ।
 पारचियि न [पाराञ्चिक] १ सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त; तप-विशेष से अतिचारो की पार-प्राप्ति (ठा ३, ४—पत्र १६२, औप) । २ वि. सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त करनेवाला (ठा ३, ४) ।
 पारचियि [पाराञ्चित] ऊपर देखो (कस, बृह ४) ।
 पारपञ्ज न [पारम्पर्य] परम्परा (रभा १५) ।
 पारपर पु [दे] राक्षस (दे ६, ४४) ।
 पारपर } न [पारम्पर्य] परम्परा (पञ्चम पारपरिय) २१, ८०, आरा १६, धर्मस १११८, १३१७, 'आयरियपारपर्ये (? रिण) ए आगय' (सुअनि १२७—बृह ४८७) ।
 पारपरिय वि [पारम्परिक] परपरा से चला आता (उप ७२८ टी) ।
 पारभ सक [प्रा + रभ्] १ आरम्भ करना, शुरू करना । २ हिंसा करना, मारना । ३ पीडा करना । पारभेमि (कुप्र ७०) । कवक, 'तयहाए पारभमाणा' (औप) ।
 पारंभ पुं [पारम्भ] शुरू, उपक्रम (विसे १०२०, पच १६६) ।
 पारभियि वि [पारम्भ] आरम्भ, उपक्रान्त (धर्मनि १४४, सुर २, ७७, १२, १५६, सुपा ५५) ।
 पारकेर } वि [परकीय] पर का, अन्यदीय पारक } (हे १, ४४, २ १४८, कुमा) ।
 पारकिअ देखो पारक (माल १६२) ।
 पारकमाण देखो पारभ = प्रा + रभ् ।
 पारण } न [पारण, क] व्रत के दूसरे दिन पारणग } का भोजन, तप की समाप्ति के अनन्तर पारणय } का भोजन (सख, उवा. महा) ।
 पारणा जी [पारणा] ऊपर देखो । 'इत्त वि [वत्] पारणवाला (पचा १२, ३५) ।

पारतत न [पारतन्त्र्य] परतन्त्रता, पराधीनता (उप २५२, पचा ६, ४१, ११, ७) ।
 पारत्त अ [परत्त] परलोक में, आगामी जन्म में, 'पारत्त विइञ्जओ धम्मो' (पञ्चम ५, १६३) ।
 पारत्त वि [परत्त, पारत्तिक] पारलौकिक, आगामी जन्म से सबन्ध रखनेवाला, 'इतो पारत्तहिय ता कीरउ देव । वकच्चुलिस्स' (धर्मनि ६०, औष ६२, स २४६) ।
 पारत्ति जी [दे] कुसुम-विशेष (गडड, कुमा) ।
 पारत्तियि वि [पारत्तिक] देखो पारत्त = पारत्त (स ७०७) ।
 पारदारियि वि [पारदारिक] परलौ-लम्पट (णया १, १८—पत्र २३६) ।
 पारद्ध वि [पारद्ध] १ जिसका प्रारम्भ किया गया हो वह, 'पारद्धा य विवाहनिमित्त सयला सामग्गी' (महा) । २ जो प्रारम्भ करने लगा हो वह, 'तओ अवहरहसमए पारद्धो नच्चिउ' (महा) ।
 पारद्ध न [दे] पूर्व-कृत कर्म का परिणाम, प्रारब्ध । २ वि आखेटक; शिकारी । ३ पीडित (दे ६, ७७) ।
 पारद्धि जी [पापद्धि] शिकार, युगया (हे १, २३५, कुमा; उप पु २५७, सुपा २१६) ।
 पारद्धिअ वि [पापद्धिक] शिकार, शिकार करनेवाला, गुजराती में 'पारकी', 'मयणमहा-पारद्धियनिसायवायावलीविद्धा' (सुपा ७१, मोह ७६) ।
 पारमिया जी [पारमिता] बोद्ध-शास्त्र-परि-भाषित प्राणातिपात-निरमणादि शिक्षा-व्रत, अहिंसा आदि व्रत (धर्मस ६८८) ।
 पारम्म न [पारम्म] परमता, उत्कृष्टता (अज्ज ११४) ।
 पारय वि [पारय] समर्थ (आचा २, ३, २, २) ।
 पारय पु [पारय] घातु-विशेष, पाप, रस-घातु । 'मद्धण न [मर्दन] आयुर्वेद-विहित रीति से पारा का मारण, रसायन-विशेष, 'आग कविणयाहेउ स सेवति पारयमहणं' (स २८६) । २ वि पार-प्रापक (धु १०६) ।

पारय न [दे] सुरा-भाण्ड, दारू रखने का पात्र (दे ६, ३८) ।
 पारय देखो पार-ग (कम्प, भग, अत) ।
 पारय पु [प्रावारक] १ पट, वस्त्र । २ वि. आच्छादक (हे १, २७१, कुमा) ।
 पारलोइअ वि [पारलौकिक] परलोक सबन्धी, आगामी जन्म से सबन्ध रखनेवाला (पएह १, ३, ४, सुम २, ७, २३, कुप्र ३८१, सुपा ४६१) ।
 पारवस्स न [पारवश्य] परवशता, पराधीनता (रयण ८१) ।
 पारस पु [पारस] १ अनायं देश-विशेष, फारस देश, ईरान (इक) । २ मणि विशेष, जिसके स्पर्श से लोहा सुवर्ण हो जाता है (सवोष ५३) । ३ पारस देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (पएह १, १) । 'उल न [कुल] १ ईरान देश, 'भरिऊण भडस वहुणाइ पतो पारसउल', 'इओ य सो अयलो पारसवने विदविय बहुय वव' (महा) । २ वि. पारस देश का, ईरान का निवासी, 'मागह्यपारसवला कालिगा सीहला य तहा' (पञ्चम ६६, ५५) । 'कुल न [कुल] ईरान का किनारा, ईरान देश की सीमा (आवम) ।
 पारसियि वि [पारसिक] फारस देश का; 'सहसा पारसियुओ समागओ रायपयवुते', 'पारसियकीरमिहण' (सुपा २६७, ३६०) ।
 पारसी जी [पारसी] १ पारस देश की जी (औप, णया १, १—पत्र ३७, इक) । २ लिपि-विशेष, फारसी लिपि (विने ४६४ टी) ।
 पारसीअ वि [पारसीक] फारस देश का निवासी (गडड) ।
 पाराई जी [दे] लोह-कुशी विशेष, लोहे की दडाकार छोटी वस्तु, 'चडवेलावणकपट्टपाराई (? ई) छिवकसलयवरत्तनेत्तपुहारसयताविण-गममा' (पएह २, ३) ।
 पाराय देखो पारावय (प्राप्र) ।
 पारायण न [पारायण] १ पार-प्राप्ति (विसे ५६५) । २ पुराण-पाठ-विशेष, 'अयोउ (? य) समत्तपरायणो साक्षापारसो जापो' (सुख २, १३) ।
 पारावय देखो पारेवय (प्राप्र, प्राप्र; ग ६८, कम्प ५६ टि) ।

पुष्पिअ वि [पुष्पित] कुसुमित, सजात-
पुष्प (धर्मवि १४८, कुमा, णाया १, ११,
मपा ५८)।

पुष्पिआ स्त्री [दे] देखो पुष्पा (पात्र)।

पुष्पिआ स्त्री [पुष्पिता] एक जैन आगम-
ग्रथ (निर १, ३)।

पुष्पिम पुत्री [पुष्पत्व] पुष्पपन (हे २,
१५४)।

पुष्पी [दे] देखो पुष्पा (षड्)।

पुष्फुआ स्त्री [दे] करीष (गोयठा) का अग्नि,
'सूइजइ हेमतम्मि दुग्गओ पुष्फुआसुअवेण'
(गा ३२६)।

पुष्फुत्तर न [पुष्पोत्तर] एक विमान (कप्प)।
°वडिसग न [°वितसक] एक देव-विमान
(सम ३८)।

पुष्फुत्तरा स्त्री [पुष्पोत्तरा] शककर की
पुष्फोत्तरा एक जाति (णाया १, १७—
पत्र २२६, परण १७—पत्र ५३३)।

पुष्फोदय न [पुष्फोदक] पुष्प-रस से मिश्रित
जल (णाया १, १—पत्र १६)।

पुष्फोवग वि [पुष्पोवग] पुष्प प्राप्त
पुष्फोवा करनेवाला, फूलनेवाला (वृक्ष)
(ठा ३, १—पत्र ११३)।

पुम पु [पुस्] १ पुरुष, नर, 'थीअपुमाणं
विमुज्जता' (पच ५, ७२), 'पुमत्तमागम्म
कुमार दोवि' (उत्त १४, २, ठा ८, औप)।
२ पुरुष-वेद (कम्म ५, ६०)। °आणमणी
स्त्री [°आजापनी] पुरुष को आज्ञा देनेवाली
भाषा, भाषा-विशेष (परण ११)। °पन्नावणी
स्त्री [प्रज्ञापनी] भाषा-विशेष, पुरुष के
लक्षणों का प्रतिपादन करनेवाली भाषा
(परण १६—पत्र ३६४)। °वयण न
[°वचन] पुलिग शब्द का उच्चारण (परण
११—पत्र ३७०)।

पुम्म (अप) सक [दृश्] देखना। पुम्मइ
(प्राक् ११६)।

पुयली स्त्री [दे] पुत-प्रदेश, कमर के नीचे
का भाग 'पुयलि पप्फोडेमाणे' (भग १५—
पत्र ६७६)।

पुयावइत्ता देखो पुआव।

पुर (अप) देखो पूर = पूरय्। पुरह (पिंग)।

पुर न [पुर] १ नगर, शहर (कुमा, कुप्र
४३८)। २ शरीर, देह (कुप्र ४३८)। °चद
पु [°चन्द्र] विद्याधर वंश का एक राजा
(पउम ५, ४४)। °भेयण वि [°भेदन]
नगर का भेदन करनेवाला। स्त्री—°णी
(उत्त २०, १८)। °वइ पु [°पति] नगर
का अधिपति (भवि)। °वर न [°वर]
श्रेष्ठ नगर, (उवा, परह १, ४)। °वरी स्त्री
[°वरा] श्रेष्ठ नगरी (णाया १, ६, उवा,
सुर २, १५२)। °वाल पु [°पाल] नगर-
रक्षक, राजा (भवि)।

पुर देखो पुर, 'पुरकम्ममि यपुच्छा' (बृह १)।

पुरएअ } देखो पुरदेव (भवि)।
पुरएव }

पुरओ अ [पुरतस्] १ अग्रत, आगे (सम
१५१, ठा ४, २, गा ३५०, कुमा, औप)।
२ पहले, पूर्वं मे, 'पुरओ कय ज तु त
पुरेकम्म' (औष ४८६)।

पुर अ [पुरस्] १ पहले, पूर्वं मे। २
समक्ष, 'तए ए से दरिद्रे समुक्किडे समाणे
पच्छा पुर च ए विउलभोगसमितिसमन्नागते
यावि विहरिज्जा' (ठा २, १—पत्र ११७)।
३ अग्रे, आगे। °गम वि [°गम] अग्र-
गामी, पुरोवर्ती (सूप्र १, ३, ३, ६)। देखो
पुरे, पुरो।

पुरजय पु [पुरजंग] एक विद्याधर राजा।
°पुर न [°पुर] एक विद्याधर-नगर (इक)।

पुरदर पुं [पुरन्दर] १ इन्द्र, देवराज। २
गन्ध द्रव्य-विशेष (हे १, १७७)। ३ वृक्ष-
विशेष, चव्य जा पेड, 'पुरदरकुसुमवाम-
सुविणेण सूइया जाया' (उप ६८६ टी)।
४ एक राजर्षि (पउम २१, ८०)। ५ मन्दर-
कुञ्ज नगर का एक विद्याधर राजा (पउम
६, १७०)। °जसा स्त्री [°यशास्] एक
राज-कन्या का नाम (उप ६७३)। °दिसि
स्त्री [°दिश्] पूर्वं दिशा (उप १४२ टी)।

पुरधि स्त्री [पुरन्धी] १ बहु कुटुम्बवाली
पुरधी स्त्री। २ पति और पुत्रवाली स्त्री
(कुमा, कुप्र १०७, सुपा २६, पात्र)। ३
अनेक काल पहले व्याही हुई स्त्री (कप्प)।

पुरकड देखो पुरक्खड (सूप्र २, २, १८)।

पुरक्कार पु [पुरस्कार] १ आगे करना, अग्रत-
स्थापन (आचा)। २ सम्मान, श्रादर
(सम ४०)।

पुरक्खड वि [पुरस्कृत] १ आगे किया हुआ
(आ ६)। २ पुरोवर्ती, आगामी, 'गहण-
समयपुरक्खडे पोगगले उदीरंति' (भग १, १)।

पुरच्छा देखो पुरत्था (राज)।

पुरच्छिम देखो पुरत्थिम (ठा २, ३—पत्र
६७, सुज्ज २०—पत्र २८७, पि ५६५)।

°दाहिणा स्त्री [°दक्षिणा] पूर्व-दक्षिण
दिशा, अग्निकोण (ठा १०—पत्र ४७८)।

पुराच्छमा देखो पुरात्थमा (ठा १०—पत्र
४७८)।

पुरच्छिमिल्ल देखो पुरत्थिमिल्ल (सम ६६)।

पुरत्थ वि [पुरस्थ] आगे रहा हुआ, अग्र-
वर्ती, पुरस्सर, 'पुरत्थ होइ सहायं रणे सम
तेण' (उप १०३१ टी), 'जिए गहिणएणत्था
इत्थ परत्थावि हु पुरत्था' (आ १४)।

पुरत्थ अ [पुरस्तात्] १ पहले, काल
पुरत्थओ } या देश की अपेक्षा से आगे, 'तपपुर-
पुरत्था } पुरत्थमाए' (सुपा ३६०), 'मोसस्त
पच्छा य पुरत्थओ य' (उत्त ३२, ३१),
'आदीणिय दुक्कडिय पुरत्था' (सूप्र १, ५,
१, २)। २ पूर्वदिशा, 'पुरत्थाभिपुहे' (कप्प,
औप, भग, णाया १, १—पत्र १६)।

पुरत्थिम वि [पौरस्त्य, पूर्व] १ पूर्वं की
तरफ का, 'उत्तर-पुरत्थिमे दिसीभाए' (कप्प,
औप)। २ न. पूर्व दिशा, 'पुरतो पुरत्थिमेण'
(णाया १, १—पत्र ५४, उवा)।

पुरत्थिमा स्त्री [पूर्वा] पूर्वं दिशा, 'पुरत्थिमाओ
वा दिसाओ आगओ' (आचा, मृच्छ १५८ टि)।

पुरत्थिमिल्ल वि [पौरस्त्य] पूर्वं दिशा का,
पूर्व दिशा में स्थित (विपा १, ७, पि ५६५)।

पुरदेव पु [पुरादेव] भगवान् आदिनाथ,
'पुरदेवजिएसस निव्वाण' (पउम ४, ८७)।

पुरव देखो पुव्व (गडड, हे ४, २७०, ३२३)।

पुरस्सर वि [पुरस्सर] अग्रगामी (कप्प)।

पुरा स्त्री [पुर] नगरी, शहर (हे १, १६)।

पुरा देखो पुरिल्ला = पुरा (सूप्र १, १, २,
२४, विपा १, १)। °इय, °कय वि [°कृत]
पूर्वं काल में किया हुआ (भवि, कुप्र ३१६)।

°भव पु [°भव] पूर्वं जन्म (कुप्र ४०६)।

पालक न [पालक्य] तरकारी-विशेष, पालक का शक्ति (वृह १)।
 पालंगा स्त्री [पालङ्क्या] ऊपर देखो (उवा)।
 पालत देखो पाल = पालय।
 पालत्र पु [पालत्र] १ भ्रवल्म्वन, सहारा, 'पावइ तडविडविपालव' (सुपा ६३५)। २ गले का आभूषण-विशेष (श्रीप, कप्प)। ३ दीर्घ, लम्बा (श्रीप, राम)। ४ पुन ध्वजा के नीचे लटकता वस्त्राञ्चल, 'भोजल पालव' (पाम्र)।
 पालका स्त्री [पालक्या] देखो पालगा, 'वत्थुलपोरणमञ्जारपोइवल्ली य पालक्या' (परण १—पत्र ३४)।
 पाला देखो पालय (कप्प, श्रीप, वित्ते २८५६, सति १, सुर ११, १०८)।
 पालण न [पालन] १ रक्षण (महा, प्रासू ३)। २ वि. रक्षण-कर्ता, धम्मस्त पालणी चैव' (संघोष १६, स ६७)।
 पालद्दुह पु [दे] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी)।
 पालप्प पु [दे] १ प्रतिसार। २ वि. विप्युत (दे ६, ७६)।
 पालय वि [पालक] रक्षक, रक्षण कर्ता (सुपा २७६, सार्ध १०)। २ पु सौधमैन्द्र का एक आभियौगिक देव (ठा ८)। ३ श्रीकृष्ण का एक पुत्र (पवे २)। ४ भगवान् महावीर के निर्वाण के दिन अभिषिक्त भवती (उज्जैन) का एक राजा (विचार ४६२)। ५ देव-विमान-विशेष (सम २)।
 पालासं पु [पालासं] पलाश-सम्बन्धी। २ न. पलाश वृक्ष का फल, किशुक-फल (गड)।
 पालि स्त्री [पालि] १ तालाव आदि का वन्य (सुर १३, ३२, अत १२, महा)। २ पाल्य भाग (गा ६४६)। देखो पाली = पाली।
 पालि स्त्री [दे] १ धान्य मापने की नाप। २ पत्न्योपन, समय का सुदीर्घ परिमाण-विशेष (उत्त १८, २८, सुख १८, २८)।
 पालिआ स्त्री [दे] खड्ग-मुष्टि, तलवार की सूठ (पाम्र)।
 पालिआ देखो पाली = पाली; उज्जाणपालि-माहि कविउत्तोहि न बहुरसड्ढाहि' (धर्मवि १३)।

पालित्त पु [पादलित्त] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य (पिड ४६८, कुप्र १७८)।
 पालित्ताण न [पादलित्तीय] सौराष्ट्र देश का एक प्राचीन नगर, जो आजकल भी 'पालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र १७६)।
 पालित्तिआ स्त्री [दे] १ राजधानी। २ भूज-नीची। ३ भण्डार, निधि। ४ सँगो, प्रकॉर (कप्प)।
 पालिय वि [पालित] रक्षित (ठा १०, महो)।
 पालियाय देखो पारिय = पारिजात (राम ३०)।
 पाली स्त्री [पाली] पक्ति, श्रेणि (गड)। देखो पालि।
 पाली स्त्री [दे] दिशा (दे ६, ३७)।
 पालीवध पु [दे] तालाव, सरोवर (दे ६, ४५)।
 पालीहम्म न [दे] वृत्ति, वाड (दे ६, ४५)।
 पालेव पुं [पादलेप] पैर में किया हुआ लेप (पिड ५०३)।
 पाव सक [प्र + आप्] प्राप्त करना। पावइ (हे ४, २३६)। भवि पाविहिंसि (पि ५३१)। कर्म पाविजइ (उवे)। वक्क पावत, पावैत (पिंग, पउम १४, ३७)। कवक्क, पावियंत, पावेज्जमाण (पह १, १, अत २०)। सक्क पाविकण (पि ५८६)। हेक्क पत्तुं, पावेउ (हास्य ११६, महा)। छ. पावणिज्ज, पाविअन्व (सुर ६, १४२, सं ६८६)।
 पाव देखो पन्वात = प्लावय। पावेइ (हे ४, ४१)।
 पाव पुन [पाप] १ अशुभ कर्म-युद्गल, कुकर्म (आचा, कुमा, ठा १, प्रासू २५), 'जम्मतरकए पावे पाणीं मुहुत्तेण निद्धे' (गज्ज १, ६)। २ पापी, भवर्था, कुकर्मी (पह १, १, कुमा ७, ६)। 'कम्म न [कम्मन्] अशुभ कर्म (आचा)। 'कम्मि वि [कम्मिन्] कुकर्म करनेवाला (ठा ७)। 'दड पु [दण्ड] नरकावास विशेष (देवेन्द्र २६)। 'पगइ स्त्री [प्रकृति] अशुभ कर्म-प्रकृति (राज)। 'यारि वि [कारिन्] दुराचारी (पउम ६३, ४३, महा)। 'समण पुं [श्रमण] उष्ट साधु (उत्त १७, ३, ४)। 'सुमिण पुंन [स्वप्न]

उष्ट स्वप्न (कप्प)। 'सुंय न [श्रुत] उष्टे शास्त्र (ठा ६)।
 पाव पु [दे] सर्प, सांप (दे ६, ३८)।
 पाव (अप) देखो पत्त = प्राप्त (पिंग)।
 पावस वि [पापीयस्] पापी, कुकर्मी (अ ४, ४—पत्र २६५)।
 पावक्खालय न [दे पापक्षालक] देखो पाउक्खालय (स ७४१)।
 पावग वि [पावक] १ पवित्र करनेवाला (राज)। पु अग्नि, वहि (सुपा १४२)।
 पावग वि [प्रापक] पहुँचानेवाला (सु ५००)।
 पावग देखो पाव = पाप (आचा, धर्मस ५४३)।
 पावज्जा (अप) देखो पठज्जा (भवि)।
 पावडण देखो पाय-वडण = पाद-पतन (प्रा कुमा)।
 पावडिड देखो पारडि (सिरि ११० १११०)।
 पावण वि [पावन] पवित्र करनेवाला (अ ४७, समु १५०)।
 पावण न [प्लावन] १ पानी का प्रवाह २ सराबोर करना (पिड २४)।
 पावण न [प्रापण] १ प्राप्ति, लाभ (सु १११, उपप ७)। २ योग की एक वि 'पावणसतीए छिवइ भेक्कसिरमणुलीए ! (कुप्र २७७)।
 पावडि देखो पारडि (धर्मवि १४८)।
 पावय देखो पाव = पाप (प्रासू ७५)।
 पावय वि [प्रावुत] आच्छादित, ढका (सूत्र २, ७, ३)।
 पावय पुन [दे] वाय-विशेष, गुजरात 'पावो' (पउम ५७, २३)।
 पावय देखो पायग = पावक (उप ७३ कुप्र २८३, सुपा ४, पाम्र)।
 पावयण देखो पवयण (हे १, ४४, णाय १, १३)।
 पावयणि नि [प्रवचनिन्] सिद्धा ज्ञानकार, सैदान्तिक (वेद्य १२८)।
 पावयणिण वि [प्रावचनिक] ज्ञ (सम ६०)।
 पावरअ देखो पावारय (स्वप्न १०५)

देव, अहंन् (सम १, भग, पडि) । ३ चौथा जिखण्डाधिपति, चतुर्थ वासुदेव (सम ७०, पचम ५, १५५) । ४ भागवान् अनन्तनाथ का प्रथम श्रावक (त्रिचार ३७८) । ५ श्रीकृष्ण (सम्पत्त २२६) ।

पुरी स्त्री [पुरी] नगरी, शहर (कुमा) । °नाह पु [°नाथ] नगरी का अधिपति, राजा (उप ७२८ टी) ।

पुरीस पुन [पुरीष] विष्ठा (शाया १, ८, उप १३६ टी, ३२० टी, पात्र), 'पुत्तपुरीसे य पिक्खति' (धर्मवि १६) ।

पुरु पु [पुरु] १ स्व-नाम-ख्यात एक राजा (अभि १७६) । २ वि प्रचुर, प्रभूत । स्त्री. °ई (प्राक् २८) ।

पुरुपुरिआ स्त्री [दे] उत्कण्ठा, उत्सुकता (दे ६, ५) ।

पुरुमिह्ल देखो पुरिमिह्ल (गडड) ।

पुरुव } देखो पुव्व = पूर्व; 'ए ईरिसो
पुरुव्व } द्विपुव्वो' (स्वप्न ५५), 'अमद-
आणव्यु दलपुव्व' (सुपा २२, नाट—मुच्छ
१२१, पि १२५) ।

पुरुस (शौ) देखो पुरिस (प्राक् ८३, स्वप्न २६, अवि ८५, प्रवौ ६६) ।

पुरुसोत्तम (शौ) देखो पुरिसोत्तम (पि १२४) ।

पुरुहूअ पु [दे] शूक, उल्लू (दे ६, ५५) ।

पुरुहूअ पु [पुरुहूत] इन्द्र, देव-राज (गडड) ।

पुरुवर पु [पुरुवरस] एक चद्र-वशीय राजा (पि ४०८, ४०९) ।

पुरे देखो पुर, 'जस्स नत्थि पुरे पच्छा मज्जे तस्स कुओसिया' (आचा) । °कड वि [°कृत] आगे किया हुआ, पूर्व मे किया हुआ (श्रौप, सूत्र १, ५, २, १, उत १०, ३) । °कम्म न [°कर्मन्] पहले करने का काम, पूर्व मे की जाती क्रिया, 'पुरओ कय ज तु त पुरेकम्म' (श्रौप ४८६, हे १, ५७) । °कार पु [°कार] सम्मान, आदर (उत २६, ७, सुख २६, ७) । °कण्ड देखो °कड (परण ३६—पत्र ७६६, परह १, १) । °वाय पु [°वात] १ सस्नेह वायु । २ पूर्व दिशा का पवन (शाया १, ११—पत्र १७१) । °सखडि स्त्री [दे.

संस्कृति] पहले ही किया जाता जिनवार —भोजनोत्सव. (आचा २, १, २, ६, २, १ ४, १) । °सथुय वि [°सस्तुत] १ पूर्व-परिचित । २ स्व-पक्ष का सगा (आचा २, १, ४, ५) ।

पुरेस पु [पुरेश] नगर-स्वामी (भवि) ।

पुरो देखो पुर (मोह ४६, कुमा) । °अ, °ग वि [°ग] अग्रगामी, अग्रेसर (प्रति ४०, विते २५४८) । °गम वि [°गम] वही अर्थ (उप पृ ३५१) । °भाइ वि [°भागिन्] दोष को छोड़ कर गुण-मात्र को ग्रहण करने वाला (नाट—विक्र ६७) ।

पुरोकर सक [पुरस् + कृ] १ आगे करना । २ स्वीकार करना । ३ सम्मान करना । सक्र पुरोकरिअ, पुरोकाउ (मा १६, सूत्र १, १, ३, १५) ।

पुरोत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर] एक विद्याधर-नगर का नाम (इक) ।

पुरोवग पु [पुरोपक] वृक्ष-विशेष (श्रौप) ।

पुरोह पुं [पुरोधस्] पुरोहित (उप ७२८ टी, धर्मवि १४६) ।

पुरोहड वि [दे] १ विषम, असम । २ पच्छोकड (?) (दे ६, १५) । ३ पुन. आवृत भूमि का वास्तु (दे ६, १५) । ४ अग्रद्वार, दरवाजा का अग्रभाग (श्रौप ६२२) । ५ बाढा, वाटक, 'सक्कासमए पत्ते मज्झ वलहा पुरोहडस्सतो । मह विट्ठीए दसि वि ठापयव्वा' (सुपा ५४५, बृह २) ।

पुरोहिअ पु [पुरोहित] पुरोधा, याजक, होम आदि से शान्ति-कर्म करनेवाला ब्राह्मण (कुमा, काल) ।

पुल पु [दे. पुल] छोटा फोडा, फुनसी, 'ते पुला भिज्जति' (ठा १०—पत्र ५२१) ।

पुल वि [पुल] समुच्चित, उन्नत, 'पुलनिपुलाए' (वस १०, १६) ।

पुल अक [पुल्] उन्नत होना (वस १०, १६) ।

पुल } सक [दृश.] देखना । पुलइ, पुलअइ
पुलअ } (प्राक् ७१, हे ४, १८१, प्राप ८, ६६) । पुलएइ (गडड १०६३), पुलएमि (गा ५३१) । वक्र पुलन, पुलअत, पुलाएत (कप्पू, नाट—मालवि ६, पचम ३, ७७, ८,

१६०, सुर ११, १२०, १२. २०४, ७, २१२) । सक्र. पुलइअ (स ६८६) ।

पुलअ पु [पुलक] १ रोमाञ्च (कुमा) । २ रत्न-विशेष, मणि की एक जाति (परण १, उत ३६, ७७, कप्प) । ३ जलचर जन्तु विशेष, ग्राह का एक भेद, 'सीमागा°पुलु(?) ल यसुमार—' (परह १, १—पत्र ७) । °कड पुन [°काण्ड] रत्नप्रभा नरक-पृथि का एक काण्ड (ठा १०) । परह

पुलअण वि [दर्शन] देखनेवाला, प्रे' (कुमा) ।

पुलअण न [पुलकन] पुलकित होना (कप्पू) ।

पुलआअ अक [उत् + लस्] उल्लसित होना, उल्लास पाना । पुलआअइ (हे १ २०२) । वक्र. पुलआअमाण (कुमा) ।

पुलइअ वि [दृष्ट] देखा हुआ (गा ११८, सुर १४, ११, पात्र) ।

पुलइअ वि [पुलकित] रोमाञ्चित (पात्र कुमा ४, १६, कप्प, महा, गा २०) ।

पुलइअ अक [पुलकाय्] रोमाञ्चित होना वक्र पुलइअत (सण) ।

पुलइअ वि [पुलकिन्] रोमाञ्च युक्त, रोमाञ्चित (वजा १६४) ।

पुलएत देखो पुलअ = हृत् ।

पुलाअ पु [दे] अमर, भौरा (षड्) ।

पुलापुल न [दे] अनवरत, निरन्तर (परह १, ३—पत्र ४५, श्रौप) ।

पुलक } देखो पुलअ = पुलक (पि २०३ टि,
पुलग } शाया १, १, सम १०४, कप्प) ।

पुलय पुंन [पुलक] कीट-विशेष (आचा २, १३, १) ।

पुलाग } पुन [पुलाक] १ असार अन्न, 'घन-
पुलाय } मसार भन्नइ पुलायसहेण' (सबोध २८, पव ६३), 'निस्सारए होइ जहा पुलाए' (सूत्र १, ७, २६) । २ चना आदि शुष्क अन्न (उत ८, १२, सुख ८, १२) । ३ लह-सुन आदि दुर्गन्ध द्रव्य । ४ दुष्ट रसवाला द्रव्य, 'तिविह होइ पुलाग घणणे गवे यरस-पुलाए य' (बृह ५) । ५ पु अपने समय को निस्सार बनानेवाला मुनि, शिथिलाचारी साधुओ का एक भेद (ठा ३, २, ५, ३, सबोध २८, पव ६३) ।

पासाण पुं [पापाण] पत्थर (हे १, २६२, कुमा)।

पासाणिअ वि [दे] सात्री (दे ६, ४१)।

पासाद् देखो पासाय (श्रीप, स्वप्न ५६)।

पासादिय वि [प्रासादित] १ प्रसन्न किया हुआ। २ न प्रसन्न करना (एया १, ६—पत्र १६५)।

पासादीय वि [प्रासादीय] प्रसन्नता-जनक (उवा, श्रीप)।

पासादीय वि [प्रासादित] महलवाला, प्रासाद युक्त (सूत्र २, ७, १ टी)।

पासाण पुन [पामाण] महल, हर्म्य (पाम, पउम ८०, ४)। °वडिसय पुं [°वतसक] श्रेष्ठ महल (भग, श्रीप)।

पासायवडेंसग पु [प्रासादावतसक] श्रेष्ठतम महल, प्रासाद-विशेष (राय ६६)।

पासासा स्त्री [दे] भली, छोटा भाला (दे ६, ३४)।

पासाय पु [दे] गयाल, वातायन, सरोखा पासावय (पड, दे ६, ४३)।

पासि वि [पार्थिव] पार्थिव, शिथिलाचारी साधु, 'पासिसारिच्छो' (सवोध ३५)।

पासिद्धि देखो पसिद्धि (हे १, ४४)।

पासिग वि [दृश्य] दर्शनीय, ज्ञेय (आचा)।

पासिम देखो पास = दृश।

पासिय वि [पाशिक] फासे में फँसानेवाला (पएह १, २)।

पासिय वि [स्पृष्ट] जुआ हुआ (आचा—पासिम)।

पासिय वि [पाशित] पाश-युक्त (राज)।

पासिया स्त्री [पाशिका] छोटा पाश (महा)।

पासिया देखो पास = दृश।

पासिह वि [पार्थिक] १ पास में रहनेवाला। २ पार्थशयो (पव ५४, तदु १३, भग)।

पासी स्त्री [दे] चुडा, चोटी (दे ६, ३७)।

पासु देखो पसु (हे १, २६, ७०)।

पासुत्त देखो पसुत्त (गा ३२४, सुर २, ८२, ६, १६८, हे १, ४४, कुप्र २५०)।

पासेइय वि [प्रस्वेदित] प्रस्वेद-युक्त, पसीना-वाला (भवि)।

पासेइय वि [पार्थवत्] पार्थशयो, वगल में सोनेवाला (राज)।

पासोअह देखो पासह = तिर्यञ्च। वहु पासोअहत्त (से ६, ४७)।

पाह (अप) सक [प्र+अर्थेय्] प्रार्थना करना। पाहसि (पि ३५६)।

पाहड देखो पासड (पि २६५)।

पाहण देखो पाहाण, 'महंत पाहण तय' (आ १२), 'बउकोणा समतोरा पाहणबद्धा य निम्मविया' (धर्मवि ३३, महा, भवि)।

पाहणा देखो पाणहा, 'तेगिण्ड पाहणा पाए' (दस ३, ४)।

पाहण्ण न [प्राधान्य] प्रधानता, प्रधानपन पाहण्ण (प्रासु ३२, शोध ७७२)।

पाहर सक [प्र+हृ] प्रकर्ष से लाना, ले आना। पाहरहि (सूत्र, ४, २, ६)।

पाहरिय वि [प्राहृक] पहरेदार (स ५२५, सुपा ३१२, ४५५)।

पाहाउय देखो पाभाइय (सुपा ३५, ५५६)। पाहाण पु [पापाण] पत्थर (हे १, २६२, महा)।

पाहिज्ज देखो पाहेज्ज (पाम)।

पाहुड न [प्राभृत] १ उपहार, पाहुड, भेंट (हे १, १३१, २०६, विपा १, ३, कपूर् २७, कप्पु, महा, कुमा)। २ जैन श्रन्धारा-विशेष, परिच्छेद, श्रय्यवन (सुज १, २, ३)। ३ प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७)। °पाहुड न [°प्राभृत] १ श्रन्धारा-विशेष, प्राभृत का भी एक श्रय (सुज १, १, २)। २ प्राभृत-प्राभृत का ज्ञान (कम्म १, ७)। °पाहुडस-मास पुन [°प्राभृतसमास] अनेक प्राभृत-प्राभृतों का ज्ञान (कम्म १, ७)। °समास पुन [°समास] अनेक प्राभृतों का ज्ञान (कम्म १, ७)।

पाहुड न [प्राभृत] १ ज्येश्ठ, कलह (कस, बृह १)। २ दृष्टिवाद के पूर्वों का श्रय्याय-विशेष (मणु २३४)। ३ सावय कर्म, पाप-क्रिया (आचा २, २, ३, १, वव १)। °छेय पु [°च्छेद] वारहवें अग-अन्य के पूर्वों का प्रकरण-विशेष (वव १)। °पाहुडिआ स्त्री [°प्राभृतिका] दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष (मणु २३४)।

पाहुडिआ स्त्री [प्राभृतिका] १ दृष्टिवाद का छोटा श्रय्याय (मणु २३४)। २ भर्त्सिका, विज्ञेयन आदि (वव ४)।

पाहुडिआ स्त्री [प्राभृतिका] १ भेंट, उ (पव ६७)। २ जैन मुनि की भिक्षा का दोष, विवक्षित समय से पहले—भन संकल्पित भिक्षा, उपहार रूप से दी (भिक्षा (पचा १३, ५, पव ६७, ठा ३, ५ पत्र १५६)।

पाहुण वि [दे] विक्रय, बेचने की वस्तु (६, ४०)।

पाहुण पुं [प्राधुण, °क] श्रुतिवि, पाहु पाहुणग } नेहमान (शोधभा ५३, सुर ३, पाहुणय } महा, सुपा १३, कुप्र ४२, भं काल)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पाहुणिअ पु [प्राधुणिक] श्रुतिवि, पहु नेहमान (काप्र २२४)।

पुस पुं [पौष] मास-विशेष, पौष मास, 'पुसो'
(प्राक् १०)।

पुसिअ वि [प्रोच्छिन्नत, मृष्ट] पोछा हुआ
(गडड, से १०, ४२, गा ५४)।

पुसिअ पुं [प्रपत] मृग विशेष (गा ६२६)।

पुस्स पु [पुष्य] १ नक्षत्र-विशेष, कृत्तिका से
आठवाँ नक्षत्र (प्राक् २६, प्राप्र, सम ८,
१७, ठा २ ३)। २ रेवती नक्षत्र का अवि-
पति देव (सुज १०, १२)। ३ ऋषि-विशेष
(राज)। ४ माणअ, 'माणव पु [मानव]
माणव, स्तुति-पाठक, भाट-चारण आदि (खाया
१, ८—पत्र १३३, टी—पत्र १३६)। देखो
पूस = पुष्य।

पुस्सदेवग न [पुष्यदैवत] जैनेतर शास्त्र-
विशेष (एदि १५४)।

पुस्सायण न [पुष्यायण] गोत्र-विशेष (सुज
१०, १६)।

पुह } देखो पिह = पृथक् (हे १, १८८)।
पुह } ऋभूय वि [भूत] अलग, जो जुदा
हुआ हो (अज्क ६०)।

पुहइ } स्त्री [पृथिवी] १ तृतीय वासुदेव की
पुहई } माता का नाम (पउम २०, १८४)।
२ एक नगरी का नाम (पउम २०, १८८)।
३ भगवान् सुपार्श्वनाथ की माता का नाम
(सुपा ३६)। ४—देखो पुढवी, पुहवी
(कुमा, हे १, ८८, १३१)। ५ धर पु [धर]
राजा (पउम, ८५, ४)। ६ नाह पु [नाथ]
राजा (सुपा १२२)। ७ पहु पुं [प्रसु] राजा
(उप ७२८ टी)। ८ पाल पु [पाल] राजा
(सुर १, २४३)। ९ राय पु [राज] विक्रम
की वास्वही शताब्दी का शाकम्भरी देश का
एक राजा, 'पुहईराएण सयमरीनरिदेण' (सुणि
१०६०१)। १० वइ पु [पति] राजा (सुपा
२०१, २४८, ५१६)। ११ वाल देखो 'पाल'
(उप ६४८ टी)।

पुहईसर पु [पृथिवीश्वर] राजा (सुपा १०७,
२४१)।

पुहत्त न [पृथक्त्व] १ भेद, पार्थक्य (अणु)।
२ विस्तार (राज)। ३ बहुत्व (भग १, २,
ठा १०)। ४ वि भिन्न, अलग, 'अत्यपुहत्तस्'
(विसे १०६६)। ५ वियक् न [वितर्क]

शुक्ल ध्यान का एक भेद (सबोध ५१)।
देखो पुहुत्त, पोहत्त।

पुहत्तिय देखो पोहत्तिय (भग)।

पुहय देखो पिह = पृथक्, 'पुहय देवीण'
(कुमा)।

पुहवि } देखो पुढवी, पुहई (पि ३८६, आ
पुहवी } १४, प्राप्र, प्रासू ५, ११३, सम
१५१, स १५२)। ६ भगवान् श्रेयासनाथ
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)। १० एक
छन्द का नाम (पिग)। ११ चंद पु [चन्द्र]
एक राजा (यति ५०)। १२ पाल पु [पाल]
१ एक राजकुमार (उप ६८६ टी)। २ देखो
पुहई-पाल (सिरि ४५)। ३ पुर न [पुर]
एक नगर का नाम (उप ८४४)।

पुहवीस पुं [पृथिवीश] राजा (हे १, ६)।
पुहु वि [पृथु] विशाल, विस्तीर्ण। स्त्री 'ई'
(प्राक् २८)।

पुहुत्त न [पृथक्त्व] १ दो से नव तक की
सख्या (सम ४४, जी ३०, भग)। २—देखो
पुहत्त (ठा १०—पत्र ४७१, ४६५)।

पुहुवी देखो पुहुई (हे २, ११३)।

पू देखो पुं। सुअ पुं [शुक्र] तोता, मर्द
पिक-पक्षि (गा ५६३ अ)।

पूअ सक [पूजय] पूजा करना। पूएइ
(महा)। कर्म पूइजसि (गडड)। वक्क पूयत
(सुपा २२४)। कवक्क पूइज्जत (पउम ३२,
६)। क पूअणीअ, पूएअन्व, पूअणिज्ज
(नाट—मुच्छ १६५, उवर १६६, औप,
खाया १, १ टी, पचा २, ८, उप ३२०
टी)। सक पूइऊण (महा)।

पूअ न [दे] दधि, दही (दे ६, ५६)।

पूअ पु [पूग] १ बुद्ध-विशेष, सुपारी का
गाछ (गडड)। २ न फल-विशेष, सुपारी (स
३४५)। देखो पूग। ३ फली, फली स्त्री
[फली] सुपारी का पेड़ (पउम ५३, ७६,
पएण १)।

पूअ न [पूर्त] तालाब, कुआँ आदि खुदवाना,
अन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाना आदि
जन-समूह के हित का कार्य, 'गरहियाणि
इट्ठपूयाणि' (स ७१३)।

पूअ वि [पूत] १ पवित्र, शुद्ध (खाया १,
५, औप)। २ न. लगातार छ दिनों का

उपवास (सबोध ५८)। ३ वि. सूप आदि
से साफ—तुष-रहित किया हुआ (खाया १,
७—पत्र ११६)।

पूअ न [पूय] पीव, दुर्गन्ध रक्त, व्रण से
निकला हुआ गन्दा सफेद विगडा हुआ खून
(पएह १, १, खाया ३, ८)।

पूअण न [पूजन] पूजा, सेवा (कुमा, औप,
सुपा ५८४, महा)।

पूअणा स्त्री [पूजना] १ ऊपर देखो (पएह
२, १, से ७६३, सबोध ६)। २ काम-
विभूषा (सूत्र १, ३, ४, १७)।

पूअणा } स्त्री [पूतना] १ दुष्टव्यन्तरो, डाइन,
पूअणी } डाकिनो (सूत्र १, ३, ४, १३,
पिडभा ४१, सुपा २६, पएह १, ४)। २
गाडर, भेडी, भेषी (सूत्र १, ३, ४, १३)।

पूअय वि [पूजक] पूजा करनेवाला (सुर
१३, १४३)।

पूअर देखो पोर = पूतर (आ १४, जी १५)।

पूअल पु [पूप] अपूप, पूआ, खाद्य-विशेष
(दे ६, १८)।

पूअलिया स्त्री [पूपिका] ऊपर देखो (पव
४)।

पूआ स्त्री [दे] पिशाच-गृहीता, भूताविष्ट स्त्री
(दे ६, ५४)।

पूआ स्त्री [पूजा] पूजन, अर्चा, सेवा (कुमा)।
१ भक्त न [भक्त] पूज्य के लिए निष्पादित
भोजन (वृह २)। २ मह पु [मह] पूजोत्सव
(कुप्र ८५)। ३ रह पु [रथ] राक्षस-वंश
में उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लका-पति
(पउम ५, २५६)। ४ रिह, रूह वि [ई]
पूजा-योग्य (सुपा ४६१, अमि ११८)।

पूआहिज्ज वि [पूजाहार्य] पूजित-पूजक (ठा
५, ३ टी—पत्र ३४२)।

पूइ वि [पूति] १ दुर्गन्धी, दुर्गन्धवाला (पउम
४४, ५५) उप ७२८ टी, तदु ४१)। २ अप-
वित्र (पचा १३, ५)। ३ स्त्री. दुर्गन्ध। ४
अपवित्रता (तदु ३८)। ५ भिक्षा का एक
दोष, पूति कर्म (पिड २६८)। ६ रोग-विशेष,
एक नासिका-रोग, नासा-कोथ (विसे २०८)।
७ पूय, पीव, 'गलतपूइनिवह' (महा), 'पूइ-
वसहिरपुल्ल' (सुर १४, ४६), 'जहा सुयी

२, १४२, कुमा) °सेणरुग्हा ली [°सेन-
कुण्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत
२५) । °रमया देखो °सिआ (विपा १,
३—पत्र ४१) । °हर देखो °घर (सुर १०,
१६, भवि) ।

पिउअ देखो पिइय (राज) ।

पिउआ ली [दे पिउअ] फूफो, पिता की
बहिन (पइ) ।

पिउआ १ ली [दे] सली, वयल्या (पइ १७५,
पिउच्छा २१०) ।

पिउली ली [दे] १ कपास, कपास । २ तुल-
लतिका, रुई की पूती (दे ६, ७८) ।

पिउल देखो पिउ (हे २, १६४) ।

पिंकार पुं [अपिंकार] १ 'अपि' शब्द । २
अपि शब्द की व्याख्या (ठा १०—पत्र
४६५) ।

पिंखा ली [पिंखा] हिडोला, डोला (पाम) ।

पिंखोल सक [पिंखोल्य] झूलना । वक
पिंखोलमाण (राज) ।

पिंग देखो पंग = गह (कुमा ७, ४६) ।

पिंग पु [पिङ्ग] १ कपिया बर्ण, पीत बर्ण ।
२ वि पीला, पीत रंग का (पाम, कुमा,
खमि १४) । ३ पुंछी कपिजल पक्षी । ली
गा (सूत्र १, ३, ४, १२) ।

पिंगाग पु [दे] मकंट, बन्दर (दे ६, ४८) ।

पिंगल पु [पिङ्गल] १ नील-पीत बर्ण । २
वि. नील-मिश्रत पीत-बर्णवाला (कुमा, ठा
४, २, शोप) । ३ पु ग्रह विशेष (ठा २,
३) । ४ एक यक्ष (तिरि ६६६) । ५ चक्र-
वर्ती का एक निधि; आशुपणो की पूति करने-
वाला एक निधान (ठा ६, उप ६८६ टी) ।
६ कुण्ड पुद्गल-विशेष (सुत्र २०) । ७
प्राकृत-पिंगल का कर्ता एक कवि (पिंग) । ८
एक जैन उपासक (भग) । ९ न. प्राकृत का
एक छन्द-भय (पिंग) । कुमार पु [कुमार]
एक राजकुमार, जिसने भगवान् सुपारवनाय
के समीप दीक्षा ली थी (सुपा ६६) । °वख
वि [°वख] १ नीली-पीली आखवाला (ठा
४, २—पत्र २०८) । २ पु. पक्षि-विशेष
(पइह १, १, शोप) ।

पिंगलायण न [पिङ्गलायण] १ गोत्र-विशेष,
जो कौत्स गोत्र की एक शाखा है । २ पुंछी.
उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७) ।

पिंगलिअ वि [पिङ्गलित] नीला-पीला किया
हुमा (से ४, १८, गउड, सुपा ८०) ।

पिंगलिअ वि [पैङ्गलिक] पिंगल-सबन्धी
(पिंग) ।

पिंगा देखो पिंग ।

पिंगायण न [पिङ्गयण] मघा-नक्षत्र का गोत्र
(इक) ।

पिंगिअ वि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ
(कुमा) ।

पिंगिम पुंछी [पिङ्गिमन्] पिंगता, पीलापन
(गउड) ।

पिंगीकय वि [पिङ्गीकृत] पीला किया हुआ,
'घरायणधुसिरिणकुप्पकपिगोकय व्व' (लहुअ
७) ।

पिंगुल पु [पिङ्गुल] पक्षि-विशेष (पइह १,
१—पत्र ८) ।

पिचु पुंछी [दे] पक्व करीर, पक्का करीर
(दे ६, ४६) ।

पिंछ } देखो पिच्छ (आचा, गउड, सुपा
पिंछड } ६४१) ।

पिंछी ली [पिंछी] साधु का एक उपकरण,
'नवि लेइ जिणा पिंछी (गिंछि)' (विचार
१२८) ।

पिंछोली ली [दे] मुँह के पवन से बजाया
जाता तुण-मय वाद्य-विशेष (दे ६, ४७) ।

पिंज सक [पिंज] पीजना, रुई का धुनना ।
वक. पिंजंत (पिंड ५७४, शोप ४६८) ।

पिंजण न [पिंजण] पीजना (पिंड ६०३,
दे ७, ६३) ।

पिंजर पु [पिंजर] १ पीत-रक्त बर्ण, रक्त-
पीत मिश्रित रंग । २ वि रक्त-पीत बर्ण-
वाला (गउड, कुम ३०७) ।

पिंजर सक [पिंजर्य] रक्त-मिश्रित पीत-
बर्ण-युक्त करना । वक पिंजरयत (पउम
६२, ६) ।

पिंजरण न [पिंजरण] रक्त-मिश्रित पीत-
बर्णवाला करना (सण) ।

पिंजरिअ वि [पिंजरित] पिंजर बर्णवाला
किया हुआ (हम्मोर १२, गउड, सुपा
५२४) ।

पिंजरुड पु [दे] पक्षि-विशेष, भास्वर पक्षी,
जिसके दो मुँह होते हैं (दे ६, ५०) ।

पिंजिअ वि [पिंजित] पीजा हुआ (दे ७,
६४) ।

पिंजिअ वि [दे] विधुत (दे ६, ४६) ।

पिंड सक [पिण्डय] १ एकनित करना,
सखिलप करना । २ अक. एकनित होना,
मिलना । पिंडेइ, पिंडयए (उव, पिंड ६६) ।
सक पिण्डिकण (कुमा) ।

पिंड पु [पिण्ड] १ कठिन द्रव्यों का सखेप
(पिण्डमा २) । २ समूह, सघात (शोप
४०७, विसे ६००) । ३ गुड वगैरह की बनी
हुई गोल वस्तु, बर्तुलाकार पदार्थ (पइह २,
५) । ४ भिक्षा में मिलता आहार भिक्षा
(उव, ठा ७) । ५ देह का एक देश । ६ देह,
शरीर । ७ घर का एक देश । ८ भद्र वा
गोला जो पित्तरो के उद्देश से दिया जाता है ।
९ गन्ध-द्रव्य विशेष, तिहक । १० उष्ण-
पुष्प । ११ कवल, ग्रास । १२ गज-कुम्भ ।
१३ मदनक वृक्ष, मदनक का पेड़ । १४ न.
प्राजीविका । १५ लोहा । १६ श्राद्ध, पितर
को दिया जाता दान । १७ वि. सहव । १८
धन, निविड (हे १, ८५) । °कपिअ वि
[°कपिअ] सर्वथा निर्बोप भिक्षा लेनेवाला
(वच ३) । °गुला ली [°गुला] गुड विशेष
इसुस का विकार-विशेष, शक्कर बनने
पहले की अवस्था-विशेष (पिंड २८३) । °घ
न [°गुद] कर्म से बना हुआ घर (वच ४)
°थ पु [°स्थ] जिन भगवान् की अवस्था
विशेष, 'न पिडत्यपयत्यावत्यतरभावणा स
(संबोध २) । °थ पु [°थ] समुवाप
(राज) । °ठाण न [°ठाण] पिण्ड देने
क्रिया, श्राद्ध (धर्मपि २६) । °परिडि
[°प्रकृति] भवान्तर भेदवाली प्रकृति (व
१, २५) । °वट्टण न [°वर्धन] आहार-वृ
कवल-वृद्धि, भ्रम-प्राशन (अंत) । व
वण न [°वर्धन] आहार बढ़ाना (धं
°वाय पु [°वात] मिना-मान, आहार-प्र
(ठा ५, १, कठ) । °वास पुं [°वास
सुद्वजन (अवि) । °विसुद्धि, °विसोद्धि
[°विशुद्ध] निष्ठा की निर्वाणता (मोपमा ३) ।

पूस पुं [दे] १ राजा सातवाहन (दे ६, ८०) । २ शुक, तोता (दे ६, ८०, गा २६३, वज्जा १३४, पात्र) ।

पूस पु [पूपन] १ सूर्य, रवि (हे ३, ५६) । २ मणि विशेष (पउम ६, ३६) ।

पूसा स्त्री [पुष्या] व्यक्ति-वाचक नाम, कुराड-कोलिक श्रावक की पत्नी (उवा) ।

पूसाण देखो पूस = पूषन् (हे ३, ५६) ।

पूह पुं [अपोह] विचार, मीमांसा, 'ईहापूह-मगणगवेसण करेमाणस्स' (श्रौप, पि १४२, २६) । देखो अपोह = अपोह ।

पृथुम (वे) देखो पठम, 'पृथुमसिनेहो' (प्राक १२४) ।

पेअ पु [प्रेत] १ व्यन्तर-भेद, एक देव-जाति (सुपा ४६१, ४६२, जय २६) । २ मृतक (पउम ५, ६०) । °कम्म न [°कम्मन्] अन्त्येष्टि क्रिया, मृत का दाहादि कार्य (पउम २३, २४) । °करणिज्ज न [°करणीय] अन्त्येष्टि क्रिया (पउम ७५, १) । °काइय वि [°कायिक] प्रेत योनि में उत्पन्न, व्यन्तर-विशेष (भग ३, ७) । °देवयकाइय वि [°देवताकायिक] प्रेत-देवता का, प्रेत-सम्बन्धी (भग ३, ७) । °नाह पु [°नाथ] यमराज, जम (स ३१६) । °भूमि, °भूमी स्त्री [°भूमि, °मी] श्मशान (सुपा २६५) । °ल्येय पु [°लोक] श्मशान (पउम ८६, ४३) । °वइ पु [°पति] यम (उप ७२८ टी) । °वण न [°वन] श्मशान (पात्र, सुर १६, २०४, वज्जा २, सुपा ५१२) । °हिव पु [°धिप] यम, जमराज (पात्र) ।

पेअ वि [प्रेयस] अतिशय प्रिय । स्त्री. °सी (सम्मत १७५) ।

पेअ } देखो पा = पा ।
पेअन्न }

पेआ स्त्री [पेया] यवाग्न, पीने की वस्तु-विशेष (हे १, २४८) ।

पेआल न [दे] १ प्रमाण (दे ६, ५७, वित्ते १६६ टी, एदि, उव) । २ विचार (वित्ते १३६१) । ३ सार, रहस्य (ठा ४, ४ टी—पत्र २८३, उप पृ २०७) । ४ प्रधान, मुख्य (उवा) ।

पेआलणा स्त्री [दे] प्रमाण-करण, 'पञ्जव-पेयालणा पिडो' (पिड ६५) ।

पेआलुय वि [दे] विचारित (वित्ते १४८२) ।

पेइअ वि [पैतृक] १ पिता से आया हुआ, पितृ-रूप-प्राप्त, 'पेइओ धम्मो' (पउम ८२, ३३, सिरि ३४८, स ५६६) । २ न स्त्री के पिता का घर, पीहर, नैहर, मैका, 'ता जा कुले कलक नो पयइइ ताव पेइए एय पेसेमि', 'विमलेण तओ भणिय गच्छ पिए पेइयमियाणि' (सुपा ६००) ।

पेईहर न [पितृगृह, पैतृकगृह] पीहर, स्त्री के पिता का घर, 'इय चित्तिअण सिग्घ धणसिरिपेईहरम्मि सचलित्तो' (सुपा ६०३) ।

पेऊस न [पीयूष] अमृत, सुधा (हे १, १०५, गा ६५, कप्पू) । °साण पुं [°शान] देव, सुर (कुमा) ।

पेखिअ वि [प्रेक्षित] कम्पित (कप्पू) ।

पेखोल भक [प्रेखोलय] झूलना, हिलना । वक्क पेखोलमाण (साया १, १—पत्र ३१) ।

पेंड देखो पिंड = पिरड (हे १, ८५, प्राक ५, प्राप्र, कुमा) ।

पेंड न [दे] १ खण्ड, टुकड़ा । २ वलय (दे ६, ८१) ।

पेंडधव पु [दे] खड्ग, तलवार (दे ६, ५६) ।

पेंडवाल वि [दे] देखो पेंडलिअ (दे ६, ५४) ।

पेंडय पु [दे] १ तरुण, युवा । २ षण्ड, नपुंसक (दे ६, ५३) ।

पेंडल पु [दे] रस (दे ६, ५८) ।

पेंडलिअ वि [दे] पिरडीकृत, पिरडाकार किया हुआ (दे ६, ५४) ।

पेंडव सक [प्र+स्थापय] १ रखना, स्थापन करना । २ प्रस्थान करना । पेंडवइ (हे ४, ३७) ।

पेंडविर वि [प्रस्थापयित्] प्रस्थापन करने-वाला (कुमा) ।

पेंडार पुं [दे] १ गोप, गो-पाल, ग्वाला । २ महिषी-पाल (दे ६, ५८) ।

पेंडोली स्त्री [दे] क्रीडा (दे ६, ५६) ।

पेंडा स्त्री [दे] कलुष सुरा, पक्वाली मदिरा (दे ६, ५०) ।

पेंत देखो पा = पा ।

पेक्ख सक [प्र + ईक्ष्] देखना, अवलोकन करना । पेक्खइ, पेक्खए (सण, पिग) । वक्क, पेक्खत (पि ३६७) । कवक्क पेक्खिअज्जत (से १५, ६३) । सक्क, पेक्खिअ, पेक्खिअण (अभि ४२, काप्र १५८) । क्क पेक्खणिज्ज (नाट—वेणी ७३) ।

पेक्खअ } वि [प्रेक्षक] देखनेवाला, निरीक्षक,
पेक्खग } द्रष्टा (सुर ७, ८०, स ३७६, महा) ।

पेक्खग न [प्रेक्षण] निरीक्षण, अवलोकन (सुपा १६६, अभि ५३) ।

पेक्खणग } न [प्रेक्षणक] खेल, तमाशा,
पेक्खणय } नाटक (सुर ७, १८२, कुप्र ३०) ।

पेक्खणा स्त्री [प्रेक्षणा] निरीक्षण, अवलोकन (श्रौष ३) ।

पेक्खा स्त्री [प्रेक्षा] ऊपर देखो (पउम ७२, २६) । देखो पेच्छा ।

पेक्खिय देखो पेच्छिअ (राज) ।

पेखिल (अप) वि [प्रेक्षित] दृष्ट (रभा) ।

पेच्चा } अ [प्रेत्य] परलोक, आगामी जन्म
पेच्चा } (भग, श्रौप), 'सबोही खलु पेच्च कुल्लाहा' (वै ७३) । °भव पु [°भव] आगामी जन्म, परलोक (श्रौप) । °भाविअ वि [°भाविक] जन्मातर-सबन्धी (परह २, २) ।

पेच्चा देखो पिअ = पा ।

पेच्छ सक [दृश्, प्र + ईक्ष्] देखना । पेच्छइ, पेच्छए (हे ४, १८१, उव, महा, पि ४५७) । भवि, पेच्छिहिंसि (पि ५२५) । वक्क पेच्छत (गा ३७३, महा) । सक्क, पेच्छिअण (पि ५८५) । हेक्क पेच्छिअं, पेच्छिअत्तए (उप ७२८ टी, श्रौप) । क्क, पेच्छणिज्ज, पेच्छिअन्व (गा ६६, श्रौप, परह १, ४, से ३, ३३) ।

पेच्छ वि [प्रेक्ष] द्रष्टा, दर्शक, 'अपरमत्थपेच्छो' (स ७१५) ।

पेच्छग देखो पेक्खग (भास ४७, धर्मसं ७४३) ।

पेच्छण देखो पेक्खग (सुपा ३७) ।

पेच्छणग } देखो पेक्खणग (प चा ६, ११,
पेच्छणय } महा) ।

पेच्छय वि [प्रेक्षक] द्रष्टा, निरीक्षक (पउम ८६, ७१, स ३६१, गा ४६८) ।

पिट्ट सक [पिट्ट्य] पीटना, ताडन करना ।
पिट्टइ, पिट्टेइ (आचा, पिग, गा १७१, सिरि
६५५) । वड्ड पिट्टत (पिग) ।

पिट्ट न [दि] पेट, उदर (पचा ३, १६, धर्मवि
६६, वेइय २३८, कक २६, सुपा ५६३,
स २१) ।

पिट्टण न [पिट्टन] ताडन, आघात (सुअ २,
२, ६२, पिड ३४, परह १, १, श्रोध
५६६, उप ५०६) ।

पिट्टण न [पीडन] पीडा, क्लेश (सुअ २,
२, ५५) ।

पिट्टणा ली [पिट्टना] ताडन (श्रोध ३५७) ।
पिट्टावणया ली [पिट्टना] ताडन कराना
(भग ३, ३—पत्र १८२) ।

पिट्टिय वि [पिट्टित] पीडा हुआ, ताडित
(सुअ २, १५) ।

पिट्ट न [पिट्ट] तरङ्गुल आदि का आटा,
चूर्ण (छाया १, १, ३, दे १, ७८, गा
३८८) ।

पिट्ट न [पृष्ट] पीठ, शरीर के पीछे का हिस्सा
(श्रोध, उव) ।

ओ अ [तस्] पीछे से, पृष्ठ भाग से
(उवा, विपा १, १, श्रोध) । करडग न
[करण्डक] पृष्ठ-वश, पीठ की बड़ी हड्डी
(तदु ३५) । चर वि [चर] पृष्ठ-गामी,
अनुयायी (कुमा) । देखो पिट्टि ।

पिट्ट वि [स्पृष्ट] १ छुआ हुआ । २ न स्पृशं
(पव १५७) ।

पिट्ट वि [पृष्ट] १ पूछा हुआ । २ न प्ररन,
पृच्छा, 'जपसि विणअ ए जपसे पिट्ट' (गा
६४३) ।

पिट्टत न [दे पृष्ठान्त] शुवा, गाँड (दे
६, ४६) ।

पिट्टपउपा ली [दे] पट्ट, मुग, कसुप मदिरा
(दे ६, ५०) ।

पिट्टपउरिआ ली [दे] मदिरा, घारू (पाअ) ।

पिट्टव वि [प्रष्टव्य] पूछने योग्य, 'नियक-
रकीदोवि किकरो कि पिट्टि (7ठु) व्वा' (रंसा) ।

पिट्टायय पुन [पिष्टातरु] केसर आदि गन्ध-
द्रव्य (गडड: स ७३४) ।

पिट्टि ली [पृष्ट] पीठ, शरीर के पीछे का
भाग (दे १, १३६, छाया १, ६, रभा,

कुमा, पड्) । ग वि [ग] पीछे चलनेवाला
(धा १२) । चम्पा ली [चम्पा] चम्पा
नगरी के पास की एक नगरी (कम्प) । मस
न [मास] परोक्ष में अन्य के दोष का
कीर्तन, 'पिट्टिमस न खाइजा' (वस ८,
४७) । मसिय वि [मासिक] परोक्ष में
दोष बोलनेवाला, पीछे निन्दा करनेवाला
(सम ३७) । माइया ली [माइका] एक
अनुत्तर-गामिनी ली, 'चदिमा पिट्टिमाइया'
(अनु २) । देखो पिट्ट = पृष्ठ ।

पिट्टी ली [पिट्टी] आटा की बनी हुई मदिरा
(बृह २) ।

पिड पुं [पिट] १ वश-पत्र आदि का बना
हुआ पात्र-विशेष । २ कब्जा, अचोतता, 'जा
ताव तेण भणिय २ २ २ वाल मह पिडे
पडियो' (सुपा १७६) ।

पिडग देखो पिडय = पिटक (श्रोध, उवा,
सुज १६) ।

पिडच्छा ली [दे] सखी (दे ६, ४६) ।

पिडय न [पिटक] १ वशमय पात्र-विशेष,
'भोगणमि (१ वि) डय करेति' (छाया १,
१—पत्र ८६) । २ दो चन्द्र और दो सूर्यों
का समूह (सुज १६) ।

पिडय वि [दे] आविन्न (पड्) ।

पिडय सक [अर्ज] पैदा करना, उपाजन
करना । पिडवद् (पड्) ।

पिडिआ ली [पिटिका] १ वश-मय भाजन-
विशेष (दे ४, ७, ६, १) । २ छोटी मजूपा
पेटो, पिटारी (उप ५८७, ५६७ दो) ।

पिडु सक [पीडय] पीडना । पिडुइ (आचा,
(पि २७६) ।

पिडु अक [अंश] नीचे गिरना । पिडुइ
(पड्) ।

पिडुइअ वि [दे] प्रशान्त (पड्) ।

पिडं अ [पृथक्] अलग, जुदा (पड्) ।

पिडर पुन [पिठर] १ भाजन-विशेष, स्याकी
(पाअ, आचा, कुमा) । २ गृह-विशेष । ३
मुक्ता, मोया । ४ मन्यान दण्ड, मयनिया (दे
१, २०१, पड्) ।

पिणद्ध सक [पि + नह, पिनि + धा]
१ डकना । २ पहिना । ३ पहिराना । ४

बांधना । पिणद्धइ, पिणद्धेइ (पि ५५६) । हेह,
पिणद्धुं, पिणद्धित्तए (अभि १८५, राज) ।
पिणद्ध वि [पिनद्ध] १ पहना हुआ (पाअ,
श्रोध, गा ३२८) । २ बड, यन्त्रित (राय) ।
३ पहनाया हुआ, 'निगमउवेवि पिणद्धो तस्स
सिरे रयणचिचइओ' (सुपा १२५) ।

पिणद्धाविद (शौ) वि [पिनिधापित] पह-
नाया हुआ (नाट—शकु ६८) ।

पिणाइ पु [पिनाकिन्] महादेव, शिव (पाअ,
गडड) ।

पिणाई ली [दे] आत्ता, प्रावेश (दे ६, ४८) ।

पिणाग पुन [पिनाक] १ शिव-धनुष । २
महादेव का शूलात्र (धर्मवि ३१) ।

पिणागि देखो पिणाइ (धर्मवि ३१) ।

पिणाय देखो पिणाग (गडड) ।

पिणाय पु [दे] कलाकार (दे ६, ४६) ।

पिणिद्ध वि [पिनद्ध, पिनिहिल] देखो
पिणद्ध = पिनद्ध, (परह २, ४—पत्र १३०,
कप, श्रोध) ।

पिणिधा सक [पिनि + धा] देखो पिणद्ध =
पि + नह । हेह पिणिधत्तए (माअ, पि
५७८) ।

पिणगाग देखो पिन्नाग (राज) ।

पिणिया ली [दे पिणिया] गन्ध-द्रव्य-
विशेष, ध्यामक, गन्ध-सुण (उत्तनि ३) ।

पिण्ही ली [दे] क्षामा, कृश ली (दे ६, ४६) ।

पित्त पुंन [पित्त] शरीर-स्थित घातु-विशेष,
तित्त घातु (भग, उव) । ज्जर पु [ज्जर]
पित्त से होवा ब्रूवार (छाया १, १) ।

मुन्छा ली [मून्छा] पित्त की प्रवृत्त
से होनेवाली वेदोशी (पडि) ।

पित्तल न [पित्तल] घातु-विशेष, पीठ
(कुप्र १४८) ।

पित्तिल } पु [पित्तव्य] वाचा, पिता का
पित्तिय } भाई (कप, सम्मत १७२, सिरि
२६३, धर्मवि १२७, स ४६५, सुपा ३३८) ।

पित्तिय वि [पैत्तिक] पित्त का, पित्त
सबन्धी (तदु १६, छाया १, १, भाग) ।

पिध अ [पृथक्] अलग, जुदा (दे १,
१८८, कुमा) ।

पिघाण देखो पिघाण (नाट—पिड १०३) ।
पिन्नाग } पुं [पिण्याह] खनी, उन खादि
पिन्नाय } का तेल निकालने पर ना डकना

पेह सक [क्षिप्] फेंकना । पेहइ (हे ४, १४३) । कर्म, पेह्लिजइ (उव) । वक्र पेह्लत (कुमा) । सक्र. पेह्लिऊण (महा) ।

पेह देखो पेर = प्र + ईर्य् । पेह्लइ (प्राक् ६०) । क्वकृ पेह्लिज्जत (से ६, २५) । सक्र पेह्लि (अप), पेह्लिअ (पिंग) । कृ पेह्लेयव्व (ओषभा १८ टी) ।

पेह सक [पीडय्] पीलना, दबाना, पीडना । पेह्लिसि, पेह्लिसि (स ५७४ टि) ।

पेह सक [पूरय्] पूरना, भरना । क्वकृ पेह्लिज्जत (से ६, २५) ।

पेह } पुन [दे] बच्चा, शिशु, बालक (उप पेह्लग } २१६), 'वीयम्मि पेह्लगाइ' (उप २२० टी) ।

पेह्लग देखो पेरग (निच् १६) ।

पेह्लण देखो पेरण (परह १, ३, गउड) ।

पेह्लण न [क्षेपण] फेंकना (धर्म २) ।

पेह्लय पु [दे] देखो पेह्ल = (दे) (विपा १, २-पत्र ३६), 'सपेह्लिय सियालि' (सुख २, ३३) ।

पेह्लय देखो पेरग (बृह १) ।

पेह्लय पु [पेह्लक] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि (अनु २) ।

पेह्लय } देखो पेर । पेह्लवइ, पेह्लावइ (प्राक् पेह्लव } ६०) ।

पेह्लिअ वि [दे पीडित] पीडित (दे ६, ५७), 'बलियदाइयपेह्लिओ' (महा) ।

पेह्लिअ देखो पेरिअ (गा २२१, विपा १, १) ।

पेह्लेयव्व देखो पेह्ल = प्र + ईर्य् ।

पेव्वे अ आमन्त्रण-सूचक अव्यय (पड्) ।

पेस सक [प्र + एपय्] भोजना, पठाना ।

पेसइ, पेसेइ (भवि, महा) । वक्र पेसअत (पि ४६०, रभा) । सक्र पेसिअ, पेसिअ (मा ४०, महा) । कृ पेसइयव्व, पेसिअव्व, पेसेयव्व (सुपा ३००, २७८, ६३०, उप १३६ टी) ।

पेस देखो पीस । वक्र पेसयत (राज) ।

पेस पुत्री [प्रोव्य] १ कर्मकर, नौकर, दास, चाकर (सम १६, सूत्र १, २, २, ३, उवा) । २ वि भेजने योग्य (हे २, ६२) ।

पेस पु [दे पेश] १ सिन्ध देश में होनेवाली एक पशु-जाति (आचा २, ५, १, ८) ।

पेस वि [दे पेश] पेश नामक जानवर के चमड़े का बना हुआ (वक्र) (आचा २, ५, १, ८) ।

पेसण न [दे] कार्य, काज, प्रयोजन (दे ६, ५७, भवि, णाया १, ७—पत्र ११७, पउम १०३, २६) ।

पेसण न [प्रेषण] १ पठाना, भोजना । २ नियोजन, व्यापारण (कुमा, गउड) । ३ आज्ञा, आदेश (से ३, ५४) ।

पेसणआरी } स्त्री [दे] दूती, दूत-कर्म करने-
पेसणआली } वाली स्त्री (दे ६, ५६, षड्) ।

पेसणा स्त्री [पेषण] पीसना, पेषण, 'सिलाए जवगोहूमपेसणाए हेऊए' (उप ५६७ टी) ।

पेसल वि [पेशल] १ सुन्दर, मनोज्ञ (आचा, गउड) । २ मधुर, मज्जु (पात्र) । ३ कोमल (गउड) ।

पेसल } न [दे] सिन्ध देश के पेश नामक
पेसलेस } पशु के चर्म के सूक्ष्म पक्ष से
निष्पन्न वस्त्र, 'पेसाणि वा पेसलाणि वा'
(२ आचा २, ५, १—सूत्र १४५), 'पेसाणि
वा पेसलेसाणि वा' (३ आचा २, ५, १, ८,
राज) ।

पेसव सक [प्र + एपय्] भेजवाना । कृ पेसवेयव्व (उप १३६ टी) ।

पेसवण न [प्रेषण] भेजवाना, दूसरे के द्वारा प्रेषण (उवा, पडि) ।

पेसविअ वि [प्रेषित] भेजवाया हुआ, प्रस्थापित (पात्र, उप ५८) ।

पेसाय वि [पैशाच] पिशाच सबन्धी (बृह २) ।

पेसि स्त्री [पेशि] देखो पेसी (सुपा ४८७) ।

पेसिअ वि [प्रेषित] १ भेजा हुआ, प्रहित (गा ११२, भवि, काल) । २ प्रेषण (पउम ६, ३५) ।

पेसिआ स्त्री [पेशिका] खरड, टुकड़ा, 'अब-पेसिया ति वा अवाडगपेसिया ति वा' (अनु ६, आचा २, ७, २, ७, ८, ९) ।

पेसिआर पु [प्रेषितकार] नौकर, श्रुत्य, कर्मकर (पउम ६, ३५) ।

पेसिदवत (शौ) वि [प्रेषितवत्] जिसने भेजा हो वह (पि ५६६) ।

पेसी स्त्री [पेशी] मास-खरड, मास-पिण्ड (तदु ७) । देखो पेसिआ ।

पेसुण्ण } न [पैशुन्य] परोक्ष में दोष-
पेसुन्न } कीर्तन, चुगली (औप, सूत्र १, १६, २, णाया १, १, भग, सुपा ४२१) ।

पेसेयव्व देखो पेस = प्र + एपय् ।

पेसिसदवत देखो पेसिदवत (पि ५६६) ।

पेह सक [प्र + ईक्ष्] १ देखना, निरीक्षण करना, ध्यान-पूर्वक देखना । २ चिन्तन करना ।

पेहइ, पेहए (पि ८७, उव), पेहति (कुप्र १६२) । भवि पेहिस्सामि (पि ५३०) । वक्र.

पेहत्, पेहमाण (उप ५४, चेइय २५०, पि ३२३) । सक्र पेहाए, पेहिया (कस, पि ३२३) ।

पेह सक [प्र + ईह्] १ इच्छा करना, चाहना । २ प्रार्थना करना । पेहेइ (दस ६, ४, २) ।

पेहण न [प्रेक्षण] निरीक्षण (पचा ४, ११) ।

पेहा स्त्री [प्रेक्षण] १ निरीक्षण (उव, सम ३२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सर्ग में वन्दर की तरह श्रोत्र-पुट को हिलाते रहना (पव ५) । ३ पर्यालोचन, चिन्तन (जाव ४) । ४ बुद्धि, मति (उत्त १, २७) ।

पेहाविय वि [प्रेक्षित] दर्शित, दिखलाया हुआ (उप ५ ३८८) ।

पेहि वि [प्रेक्षिन्] निरीक्षक (आचा, उव) स्त्री णी (पि ३२३) ।

पेहिय वि [प्रेक्षित] निरीक्षित (महा) ।

पेहुण न [दे] १ पिच्छ, पंख (दे ६, ५८, पात्र, गा १७३, ७६५, वजा ४४, भट्ट १४१, गउड) । २ मयूर पिच्छ, मयूर, पख, शिखरड (परह १, १, २, ५, ज १, णाया १, ३) देखो पिहुण ।

पोअ सक [प्र + वे] पिरोना, शू, पोअति (गच्छ ३, १८, सूत्रानि ७४) ।

पोयमाण (स ५१२) । सक्र. पोइ (धर्मवि ६७) ।

पोअ वि [प्रोत] पिराया हुआ (दे ३

पोअ पु [पोत] १ जहाज, प्रव (पात्र, सुपा ८८, ३६६) । २ =

वच्चा (दे ६, ८१, पात्र, सुपा न. वक्र, कपडा (ठा ३, १—

पिसुणिअ वि [कथित] ? कहा हुआ । २ सूचित (सुपा २३, पात्र, कुप्र २७८) ।
 पिसुमय (वे) पुं [विस्मय] आश्चर्य (प्राक् १२४) ।
 पिह सक [स्पृह] इच्छा करना, चाहना ।
 पिहाइ (भग ३, २—पत्र १७३) । सक्र. पिहाइत्ता (भग ३, २) ।
 पिह वि [पृथक्] भिन्न, जुदा, 'पिहपिहाण' (विसे ८४८) ।
 पिह अ [पृथक्] अलग (हे १, १३७, षट्) ।
 पिहड पु [दे] ? वाद्य-विशेष । २ वि विवरण (दे ६, ७६) ।
 पिहड देखो पिहड (हे १, २०१, कुमा, उवा) ।
 पिहण न [पिधान] ? ढकन, पिधान (सुर १६, १६५) । २ ढकना, आच्छादन (पचा १, ३२, सबोध ४६, सुपा १२१) ।
 पिहणया स्त्री [पिधान] आच्छादन, ढकना (स ५१) ।
 पिहय देखो पिह = पृथक् (कुमा) ।
 पिहा सक [पि + धा] ? ढकना । २ बंद करना । पिहाइ (भग ३, २) । सक्र पिहाइत्ता, पिहिऊण (भग ३, २, महा) ।
 पिहाण देखो पिहण (ठा ४, ४, रत्न २५, कप्प) ।
 पिहाणिआ स्त्री [पिधानिका] ढकनी (पात्र) ।
 पिहाणी स्त्री [पिधानी] ऊपर देखो (दे) ।
 पिहिअ वि [पिहित] ? ढका हुआ । २ बंद किया हुआ (पात्र, कस, ठा २, ४—पत्र ६६, सुपा ६३०) । ?सव वि [सिव] ? जिसने आसन्न को रोका हो (दस ४) । २ पु. एक जैन मुनि का नाम (पउम २०, १८) ।
 पिहिण देखो पिहण, 'आणवणे पेसवणे पिहिणे ववएस मच्छरे वेव' (आ ३०, पडि) ।
 पिहिमिं (अप) स्त्री [पृथिवी] भूमि, धरती ।
 ?पाल पु [पाल] राजा (भवि) ।
 पिहीकय वि [पृथक्-कृत] अलग किया हुआ (पिड ३६१) ।
 पिहु वि [पृथु] ? विस्तीर्ण (कुमा) । २ पु. एक राजा का नाम (पउम ६८, ३४) ।
 ?रोम पु [रोम] मीन, मत्स्य (दे ६, ५० टी) ।

पिहु देखो पिह = पृथक् (सुर १३, ३६, सण) ।
 पिहुं देखो पिहुय, 'पिहुलज्ज ति नो वए' (दस ७, ३४) ।
 पिहुंड न [पिहुण्ड] नगर-विशेष (उत्त ३१, २) ।
 पिहुण [दे] देखो पेहुण (आचा २, १, ७, ६) । ?हृथ पु [हस्त] मयूर-पिच्छ का किया हुआ पंखा (आचा २, १, ७, ६) ।
 पिहुत्त देखो पुहुत्त (तंडु ४) ।
 पिहुय पुन [पृथु] खाद्य-विशेष, चिडवा (आचा २, १, १, ३, ४) ।
 पिहुल वि [पृथुल] विस्तीर्ण (पएह १, ४, औप, दे ६, १४३, कुमा) ।
 पिहुल न [दे] मुंह के वायु से बजाया जाता वृण-वाद्य (दे ६, ४७) ।
 पिहे देखो पिहा । पिहेइ, पिहे (उत्त २६, ११, सूअ १, २, २, १३) । सक्र पिहेऊण (पि ५८६) ।
 पिहो अ [पृथक्] अलग, भिन्न (विसे १०) ।
 पिहोअर वि [दे] तनु, कृश, दुबल (दे ६, ५०) ।
 पी सक [पी] पान करना । वक्र. 'तम्मुहस-सकत्तिपीऊसपूर पीयमाणी' (रयण ५१) ।
 पीअ पु [पीत] ? पीत वर्ण, पीला रंग । २ वि पीत वर्णवाला, पीला (हे २, १७३, कुमा, प्राप्र) । ३ जिसका पान किया गया हो वह (से १, ४०, दे ६, १४४) । ४ जिसने पान किया हो वह (प्राप्र) ।
 पीअ वि [प्रीत] प्रीति युक्त, सतुष्ट (औप) ।
 पीअर (अप) नीचे देखो (पिंग) ।
 पीअल देखो पीअ = पीत (हे २, १७३, प्राप्र) ।
 पीअसी स्त्री [प्रेयसी] प्रेम-पान स्त्री (कुमा) ।
 पीइ पु [दे] अस्व, घोडा (दे ६, ५१) ।
 पीइ स्त्री [प्रीति] ? प्रेम, अनुसंग (कप्प; पीइं) महा) । २ रावण की एक पत्नी का नाम (पउम ७४, ११) । ?कर पुन [कर] एक विमानावास, आठवां प्रवेयक-विमान (देवेन्द्र १३७, पव १६४) । ?गम न [गम] महाशुक्र देवेन्द्र का एक यान-विमान (इक्र. औप) । ?दाण न [दान] हर्ष होने के

कारण दिया जाता दान, पारितोषिक (मोस सुर ४.६१) । ?धम्मिय न [धम्मिक] वै मुनियो का एक कुल (कप्प) । ?मण वि [मनस्] ? प्रीति-युक्त चित्तवाला (भग) २ पु महाशुक्र देवलोक का एक यान-विमान (ठा ८—पत्र ४३७) । ?वद्धण पु [वर्धन] कार्तिक मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १० १६, कप्प) ।
 पीईय पु [दे] वृस-विशेष, पुल्ल का एक भेद, 'पीईयपाणकएइरकुज्जय तह सिन्दुवां य' (पएण १) ।
 पीऊस न [पीयूष] अमृत, सुधा (पात्र) ।
 पीड सक [पीडय] ? हेरान करना । २ दबाना । पीडइ, पीडतु (पिंग, हे ४, ३८५) ।
 कर्म पीडिज्जइ (पिंग) । क्वरु पीडिज्जत, पीडिज्जमाण (से ११, १०२, गा ५४१, सण) ।
 पीडं देखो पीडा । ?थर वि [कर] पीष-कारक (पउम १०३, १४३) ।
 पीडरइ स्त्री [दे] चोर की स्त्री (दे ६, ५१) ।
 पीडा स्त्री [पीडा] पीडन, हेरानो, वेदना (पात्र) । ?कर वि [कर] पीडा-कारक 'अत्तिअ न भासियक्वअत्थिहुसचपि ज न वतव्व' । सचपि त न सच्च ज परपीडाकरं वयण' (आ ११, प्रासू १५०) ।
 पीडिअ वि [पीडित] ? पीडा से जो दुःखी हो वह, अभिभूत, पराजित, व्याकुल, दुःखित । २ दबाया गया (हे १, २०३, महा, पात्र) ।
 पीड पुन [पीठ] ? आसन, पीडा, 'पीड विट्टर आसण' (पात्र, रयण ६३) । २ आसन विशेष, शरीर का आसन (वउ, हे १, १०६, उवा, औप) । ३ तल, 'यत्तु नेडपीड' (कुमा) । ४ पु एक जैन महर्षि (सट्ठि ८१ टी) । ?वय पु [वय] अय की अवतरणिका, भूमिका, 'नय पीडअय-रहिय कहिज्जमाणपि देइ भाएव' (पउम ३, १६) । ?मइ, ?मइअ पुत्रो [मइअ] काम-पुरुषार्थ में सहायक नायक का समीपवर्ती पुरुष, राजा आदि का वयन्य विशेष (रायण १, १—पत्र १६, कप्प) । ?मदिना (मा १६) । ?सपि वि [सपिं] ?उ-विशेष (आचा) ।

५, ३, ८), 'पोग्गलाइ' (सुज्ज ६, पच ३, ४६)। २ न. मास (पच २६८, हे १, ११६)। °स्थिआय पुं [°स्तिकाय] पुद्गल-स्कन्ध, पुद्गल-राशि (भग, ठा ५, ३)। °परट्ट, °परियट्ट पुं [°परिवर्त] १ समस्त पुद्गल-द्रव्यो के साथ एक-एक परमाणु का संयोग-वियोग। २ समय का उत्कृष्टतम परिमाण-विशेष, अनन्त कालचक्र-परिमित समय (कम्म ५, ८६, भग १२, ४, ठा ३, ४)।

पोग्गलि वि [पुद्गलिन्] पुद्गलवाला, पुद्गल-युक्त (भग ८, १०—पत्र ४२३)।

पोग्गलिय वि [पौद्गलिक] पुद्गल-मय, पुद्गल-सन्धो, पुद्गल का (पिंडभा ३२४)।

पोच्च वि [दे] सुकुमार, कोमल, गुजराती में 'पोचु' (दे ६, ६०)।

पोच्चड वि [दे] १ असार, निस्तार (णाय १, ३—पत्र ६४)। २ अतिनिविड (परह १, १—पत्र १४)। ३ मलिन (निचू ११)।

पोच्छल अक [प्रोत् + शल्] उछलना, ऊंचा जाना। वक्त्र पोच्छलत (सुर १३, ४१)।

पोच्छाहण न [प्रोत्साहन] उत्तेजन (वेणी १०५)।

पोच्छाहिअ वि [प्रोत्साहित] विशेष उत्साहित किया हुआ, उत्तेजित (सुर १३, २६)।

पोट्ट पु [पुत्र] लडका, 'एक्केण चारभड-पोट्टेण' (वव १, टी)।

पोट्ट न [दे] पेट, उदर, मराठी में 'पोट' (दे ६, ६०, णाय १, १—पत्र ६१, भोधभा ७६, गा ८३, १७१, २८५, स ११६, ७३८, उवा, सुख २, १५, सुपा ५४३, प्राक ३७, पव १३५, ज २)। °साल पु [°शाल] एक परिव्राजक का नाम (विसे २४५२, ५५)। °सारणी स्त्री [°सारणी] अतीसार रोग (भाव ४)।

पोट्ट } न [दे] पोटला, गट्टर, गठरी,
पोट्टल } 'कामिणियवविच कदप्पविलासराय-
हाणित्ति। न मुणइ अमेज्जपोट्ट' (सुपा ३५५, दे २, २४, स १००)।

पोट्टलिगा स्त्री [दे] पोटली, गठरी (सुख २, १७)।

पोट्टलिय वि [दे] पोटली उठानेवाला, गठरी-वाहक (निचू १६)।

पोट्टलिया [दे] देखो पोट्टलिगा (उप पृ ३८७, सुर १२, ११, सुव २, १७)।

पोट्टि स्त्री [दे] उदर पेशी (मुच्छ २००)।

पोट्टिल पु [पोट्टिल] १ भारतवर्ष का भावी नववीं तीर्थंकर—जिन-देव (सम १५३)।

२ भारतवर्ष के चौथे भावी जिन-देव का पूर्वभवीय नाम (सम १५४)। ३ भगवान् महावीर का व्युत्क्रम से छठवें भव का नाम (सम १०५)। ४ एक जैन मुनि, जिसने भगवान् महावीर के समय में तीर्थंकर-नाम-कर्म बंधा था (ठा ६)। ५ एक जैन मुनि (पउम २०, २१)। ६ देव-विशेष (णाय १, १४)। ७ देखो पोट्टिल (राज)।

पोट्टिला स्त्री [पोट्टिला] व्यक्ति-वाचक नाम, एक स्त्री का नाम (णाय १, १४)।

पोट्टिस पु [पोट्टिस] एक कवि का नाम (कप्पू)।

पोट्टवई स्त्री [प्रौष्ठपदी] १ भाद्रपद मास की पूर्णिमा। २ भादो की अमावस्या (सुज्ज १०, ६)।

पोट्टिल पु [पुट्टिल] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर-विमान में उत्पन्न एक जैन मुनि (अनु)।

पोडइल न [दे] दुण विशेष (परण १—पत्र ३३)।

पोड वि [प्रौड] १ समर्थ (पाअ)। २ निपुण, चतुर। २ प्रगल्भ। ४ प्रबुद्ध, यौवन के बाद की अवस्थावाला (उप पृ ८६, सुपा २२४, रभा, नाट—मालती १३६)। °वाय पुं [°वाद] प्रतिज्ञा-पूर्वक प्रत्याख्यान (गा ५२२)।

पोडा स्त्री [प्रौडा] १ तीस से पचपन वर्ष तक की स्त्री (कुप्र १८५)। २ नायिका का एक भेद, शृङ्गार रस में काम-कला आदि अच्छी तरह जाननेवाली (प्राक १०)।

पोडिम पु स्त्री [प्रौडमन्] प्रौढता, प्रौढपन (मोह २)।

पोडी स्त्री [प्रौडी] ऊपर देखो (कुप्र ४०७)।

पोणिअ वि [दे] पूर्ण (दे ६, २८)।

पोणिआ स्त्री [दे] सूते से भरा हुआ तकुवा (दे ६, ६१)।

पोत देखो पोअ = पोत (औप, बृह १, णाय १, ८)।

पोतणया देखो पोअणा (उप पृ ४१२)।

पोत्त पु [पौत्र] पुत्र का पुत्र, पोता (दे २, ७२, आ १४)।

पोत्त न [पोत्र] प्रवहण, नौका, 'विलाउलमि अयारियाणि सन्वाणि तेण पोत्ताणि' (उप ५६७ टी)।

पोत्त } न [पोत्त] १ वज्र, कपडा (आ
पोत्ताग } १०, औष १६८, कप्पू, स ३३०)।

२ धोती, कटी-वज्र (गच्छ ३, १८, कस, वव ८४, आवक ६३ टी, महा)। ३ वज्र-खण्ड (पिंड ३०८)।

पोत्तय पु [दे] फोता, वृषण, अण्डकोश (दे ६, ६२)।

पोत्तिअ न [पौतिक] वज्र, सूती कपडा (ठा ५, ३—पत्र ३३८, कस २, २६ टि)।

पोत्तिअ वि [पोतिक] १ वज्र-धारी। २ पु वानप्रस्थो का एक भेद (औप)।

पोत्तिआ स्त्री [पौत्रिका] पुत्र की लडकी (रंभा)।

पोत्तिआ स्त्री [दे] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १४७)।

पोत्तिआ } स्त्री [पोतिका, पोती] १ धोती,
पोत्ती } पहनने का वज्र, साडी (विसे २६०१)। २ छोटा वज्र, वज्र-खण्ड, 'चउ-
प्फालयाए पोत्तीए मुहं बवेत्ता' (णाय १, १—पत्र ५३, पिंडभा ६), 'मुहपोत्तियाए' (विपा १, १)।

पोत्ती स्त्री [दे] काच, शीशा (दे ६, ६०)।

पोत्तुल्लया देखो पोत्तिआ (णाय १, १८—पत्र २३५)।

पोत्थ पुंन [पुस्त, °क] १ वज्र, कपडा पोत्थग (णाय १, १३—पत्र १७६)। २-पोत्थय ३ देखो पुत्थ, 'पोत्थकम्मजक्खा विव निच्छिटा' (वसु, आ १२, सुपा २८६, विसे १४२५, बृह ३, प्राप्र, औप)।

पोत्था स्त्री [प्रोत्था] प्रोत्थान, मूलोत्पत्ति (उत्त २०, १६)।

पोत्थार पुं [पुस्तककार] पोथी लिखनेवाला, पोथी बनाने का काम करनेवाला शिल्पी, दफ्तरी, जिल्दसाज (जीव ३)।

पय का बीज-कोश, कमल का मध्य भाग (श्रीप)। ^१क्ख पु [^१क्ष] १ विष्णु, श्रीकृष्ण। २ कश्मीर के एक राजा का नाम (मुद्रा २४२)। ^१गय न [^१गत] वाद्य-विशेष का ज्ञान, कला-विशेष (श्रीप)। ^१द्ध न [^१र्ध] पुष्करवर नामक द्वीप का आधा हिस्सा (सुज १६)। ^१वर पु [^१वर] द्वीप-विशेष (ठा २, ३, पश्चि)। ^१सवट्टग देखो पुक्खल-सवट्टय (राज)। ^१वत्त देखो पुक्खलावट्टय (राज)।

पुम्परिणी देखो पोम्परिणी (सूत्र २, १, २, ३, श्रीप, पाश्च)।

पुम्परुओ } पु [^१पुष्करोद] समुद्र-विशेष
पुम्परुओ } (इक, ठा ३, १, ७, सुज १६)।

पुम्पल पु [^१पुष्कर] एक विजय, प्रान्त-विशेष, जिनकी मुख्य नगरी का नाम श्रीपवि है (इक)। २ पय, कमल, 'मिसमिसमुणाल-पुणालताए' (सूत्र २, ३, १८)। ३ पय-नसर (आचा २, १, ८—सूत्र ४७)। ^१विभग न [^१विभङ्ग] पय-कन्द (आचा २, १, ८—सूत्र ४७)। ^१सवट्ट, ^१सवट्टय पु [^१सवर्त, ^१क] मेन-विशेष, जिसके वर-मने से दस हजार वर्ष तक धृषिणी वासित रहती है (सर २, ६, ठा ४, ४—पत्र २७०)। देखो पुम्पर।

पुम्पल पु [^१पुष्कर] १ एक विजय, प्रदेश-विशेष (ठा २, ३—पा ८०)। २ अनाय देश विशेष। ३ पुष्पी उस देश में उत्पन्न, जिनो रत्नेमाला, 'मिषलीहि पुलिदिहि पुगलीहि (?)' (भग ६, ३३—पत्र ४५७), ['मिहोरी पुलिदीहि पम्पणीहि (?)' (भग ८, ३३ टी—पत्र ४६०)]। ८ वि. प्रत्यन्त, प्रभू (कुप्र ४१०)। ५ मपूणं, परिपूणं (सूत्र २, १, १)।

पुम्पलचिभन } पुन [^१दे] जलगह-विशेष,
पुम्पलचिभन } जल में होनेवाली वनस्पति-
गिण (सूत्र २, ३, १८, १६)। देखो पोम्परुचिभन।

पुम्पलचिभन } श्री [^१पुष्करवती, पुष्करलावती]
महामिन्दु परा का विजय—प्रान्त-विशेष (ठा २, ३, २२ मरा)। ^१कूड पुन [^१कूट] एक्-
क पर्वत का एक शिखर (र)।

पुक्खलावट्टय पु [^१पुष्करावर्तक, पुष्कला-
वर्तक] मेघ-विशेष, 'पुक्खल (?)ता वट्टए
ए महामेहे एणेण वासेण दस वाससहससाइं
मावेति' (ठा ४, ४)।

पुक्खलावत्त पुं [^१पुष्करावर्त, पुष्कलावर्त]
महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रान्त (ज
४)। ^१कूड पुं [^१कूट] एकशैल पर्वत का
एक शिखर (इक)।

पुगारिया ली [^१दे] वलादि खादक जलु-विशेष
(सूत्र ० ब्र० गा० २८२)।

पुग पुन [^१दे] वाद्य-विशेष, 'सो पुरम्मि पुगाइं
वाएइ' (कुप्र ४०३)।

पुगल पु [^१पुद्गल] १ वृक्ष-विशेष। २ न.
फल-विशेष। ३ मांस (दस ५, १, ७३)।

पुगल देखो पोगगल (सिक्खा १५, नव ४२,
पि १२५)। ^१परट्ट, ^१परावत्त पु [^१परावर्त]
देखो पोगगल परिअट्ट (कम्म ५, ८६, वै
५०, सिक्खा ८)।

पुषड देखो पोच्छड, 'सेयमलपुव्व (?) च
डम्मी' (तदु ४०)।

पुच्छ सक [^१प्रच्छ] पृच्छना, प्रश्न करना।
पुच्छइ (हि ४, ६७)। भूका, पुच्छिपु,
पुच्छीम, पुच्छे (पि ५१६, कुमा, भग)।
कर्म, पुच्छिज्जइ (भवि)। वक्क पुच्छत
(गा ४७, ३५७, कुमा)। कवक्क पुच्छि-
ज्जत (गा ३४७, सुर ३, १५१)। सक्क
पुच्छित्ता (भग)। हेक्क पुच्छिउ, पुच्छि-
त्तए (पि ५७३, भग)। क्क पुच्छणिज्ज,
पुच्छणीअ, पुच्छियव्व, पुच्छेयव्व (आ
१४, पि ५७१, उप ८६४, कप्प)।

पुच्छ देखो पुच्छ = प्र + उच्छ। पुच्छइ (पड)।
पुच्छ देखो उच्छ = पुच्छ (कप्प)।

पुच्छअ } वि [^१प्रच्छक] पूछनेवाला,
पुच्छग } प्रश्न-कर्ता (श्रीपमा २८, सुर
१०, ६५)। ली ^१च्छिआ (अभि १२५)।

पुच्छण न [^१प्रच्छन, प्रश्न] वृच्छा (सूत्रनि
१६३, धर्मवि ८, आचक ६३ टी)।

पुच्छणया } ली [^१प्रच्छना] ऊपर देखो
पुच्छणा } (उप ४६६, श्रीप)।

पुच्छणी ली [^१प्रच्छनी] प्रश्न की मापा (ठा
४, १—पत्र १८२)।

पुच्छल (भन) देखो पुष्ट = पृष्ट (पिण)।

पुच्छा ली [^१पृच्छा] प्रश्न (उवा, सुर ३,
३५)।

पुच्छिअ वि [^१पृष्ट] पूछा हुआ (श्रीप, कुमा,
भग, कप्प, सुर २, १६८)।

पुच्छिर वि [^१प्रष्ट] प्रश्न-कर्ता (गा ५६८)।
पुच्छल देखो पुच्छल (पिण)।

पुज सक [^१पूजय्] पूजना, आदर करना।
पुजइ (कुप्र ४२३, भवि)। कर्म पुज्जिज्जइ
(भवि)। वक्क पुज्जत (कुप्र १२१)। कवक्क,
पुज्जिज्जत (भवि)। संक्क, पुज्जिउं, पुज्जि-
ऊण (कुप्र १०२, भवि)। क्क पुज्जिअव्व
(ती ७)। प्रयो, पुज्जावइ (भवि)।

पुज देखो पूज = पूजय्।
पुज्जत देखो पुज्ज = पूजय्।

पुज्जत देखो पूर = पूरय्।

पुज्जण न [^१पूजन] पूजा, अर्चा (कुप्र १२१)।
पुज्जमाण देखो पूर = पूरय्।

पुज्जा ली [^१पूजा] पूजा, अर्चा (उप पृ २४२)।
पुज्जिय वि [^१पूजित] सेवित, अर्चित (भवि)।

पुट्ट सक [^१प्र + उच्छ] पोछना। पुट्टइ
(प्राक् ६७)।

पुट्ट न [^१दे] पेट, उदर (आ २८, मोह ४१,
पव १३५, सम्मत २२६, सिरि २४२,
सरा)।

पुट्टल } पुन [^१दे] गडर, गाँठ, गुजराती
पुट्टलाय } में 'पोटलु', 'सबलपुट्टलाय च
गहिय' (सम्मत् ६१)।

पुट्टिलिया ली [^१दे] छोटी गठरी, पोटली, मोटरी
(सुपा ४३, ३४४)।

पुट्टिल पुं [^१पोट्टिल] १ भगवान् महावीर का
एक शिष्य, जो भविष्य में तीर्थंकर होनेवाला
है (विचार ४७८)। २ एक अनुत्तर-देवलोक-
गामी जैन महापि (अनु २)।

पुट्ट वि [^१रुष्ट] १ छुआ हुआ (भग, श्रीप;
हे १, १३१)। २ न. स्पर्श (ठा २, १, नव
१८)।

पुट्ट वि [^१पृष्ट] १ पूछा हुआ (श्रीप, सरा, हे
२, ३४)। २ न. प्रश्न (ठा २, १)।
^१लाभिय वि [^१लाभिक] अभिग्रह-विशेष-
वाला (मुनि) (श्रीप, परह २, १)।
^१सेणियापरिकम्म पुन [^१श्रेणिकापरिक-
मर्म्म] दृष्टिवाद का एक प्रतिपाद्य विषय
(सम १२८)।

पोसण न [पोषण] १ पुष्टि (पणह १, २) ।
२ पालन । ३ वि पोषण-कर्ता, 'लोग परं
पि जहासिपोसणो' (सुअ १, २, १, १६) ।
पोसण न [पोसन्] प्रपान, गुदा (ज ३) ।
पोसणया ली [पोषणा] १ पोषण, पुष्टि ।
२ भरण, पालन (जवा) ।

पोसय देखो पोस = पोस, 'पोसए ति' (ठा
६ टी—पत्र ४५०, बृह ४) ।

पोसय देखो पोसग (राज) ।

पोसह पु [पोषध, पौषध] १ अष्टमी,
चतुर्दशी आदि पर्वतिथि मे करने योग्य जैन
श्रावक का व्रत-विशेष, आहार आदि के त्याग-
पूर्वक किया जाता अनुष्ठान-विशेष (सम १६,
जवा, औप, महा, सुपा ६१६, ६२०) । २
पर्व-दिवस—अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व-
तिथि, 'पोसहसहो ष्ठीए एत्य पव्वाणुवायओ
भण्णो' (सुपा ६१६) । °पडिमा ली
[°प्रतिमा] जैन श्रावक को करने योग्य
अनुष्ठान-विशेष, व्रत-विशेष (पचा १०, ३) ।
°वय न [°व्रत] वही पूर्वोक्त अर्थ (पडि) ।
°साला ली [°शाला] पौषध-व्रत करने का
स्थान (शाया १, १—पत्र ३१, अत, महा) ।
°ववास पु [°ववास] पर्वदिन मे उप-
वास-पूर्वक किया जाता जैन श्रावक का अनु-
ष्ठान-विशेष, जैन श्रावक का ग्यारहवाँ व्रत
(औप, सुपा ६१६) ।

पोसहिय वि [पौषधिक] जिसने पोषध-
व्रत किया हो वह, पौषध करनेवाला (शाया
१, १—पत्र ३०, सुपा ६१६, धर्मवि २७) ।

पोसिअ वि [दे] दु स्य, दरिद्र, दु ली (दे
६, ६१) ।

पोमिअ वि [पुष्ट] पोषण-युक्त (भवि) ।

पोसिअ वि [पोषित] १ पुष्ट किया हुआ ।
२ पालित (उत्त २७, १४) ।

पोसिद (शौ) वि [प्रोषित] प्रवास—विदेश मे
गया हुआ । °भत्तुआ ली [°भर्तृका] जिसका
पति प्रवास—परदेश मे गया हो वह ली
(स्वप्न १३४) ।

पोसी ली [पौषी] १ पौषमास की पूर्णिमा ।
२ पौष मास की अमावस (सुज १०, ६,
इक) ।

पोह पु [दे] वैल आदि की विद्या का ढेर
कच्छी भाषा में 'पोह' (पिड २४५) ।

पोह पुं [प्रोथ] अरब के मुल का प्रान्त भाग
(गजड) ।

पोहण पु [दे] छोटी मछली (दे ६, ६२) ।

पोहत्त न [पुथुत्त्व] चौडाई (भग) ।

पोहत्त देखो पुहत्त (पि ७८) ।

पोहत्तिय वि [पार्थकित्वक] पृथक्त्व-सम्बन्धी
(पण २२—पत्र ६३६, ६४०, २३—पत्र
६६४) ।

पोहल देखो पोफफल (षड) ।

°प्प देखो प = प्र, 'विप्पोसहिपत्ताण' (सति
२, गजड) ।

°प्पास देखो पयास = प्रयास (अभि ११७) ।

°प्पउत्त देखो पउत्त = प्रवृत्त (मा ३) ।

°प्पञ्चअ देखो पञ्चय (अभि १७६) ।

°प्पडव (मा) अक [प्र + तप्] गरम होना ।
पडवदि (पि २१६) ।

°प्पडिआर देखो पडिआर = प्रतिकार (मा
४३) ।

°प्पडिहा देखो पडिहा = प्रतिभा (कुमा) ।

°प्पणइ देखो पणइ = प्रणयिन् (कुमा) ।

°प्पणाम देखो पणाम = प्रणाम (हे ३,
१०५) ।

°प्पणास देखो पणास = प्रणाश (सुपा
६५७) ।

°प्पण्णा देखो पण्णा = प्रज्ञा (कुमा) ।

°प्पत्थाण देखो पत्थाण (अभि ८१) ।

°प्पदेस देखो पदेस (नाट—विक्र ४) ।

°प्पफुरिद (शौ) देखो पफुरिअ (नाट—
मालती ५४) ।

°प्पवध देखो पवध (रभा) ।

°प्पभिदि देखो पभिइ (रभा) ।

°प्पभूद (शौ) देखो पभूय (नाट—वेणी,
३६) ।

°प्पमत्त देखो पमत्त (अभि १८५) ।

°प्पमाण देखो पमाण (पि ३६६ ए) ।

°प्पमुक्क देखो पमुक्क (नाट—उत्तर ५६) ।

°प्पमुह देखो पमुह (गजड) ।

°प्पयर देखो पयर (कुमा) ।

°प्पयाव देखो पयाव (कुमा) ।

°प्पयास देखो पयास = प्रकाश (सुपा ६५७) ।

°प्पलावि देखो पलावि (अभि ४६) ।

°प्पवत्तण देखो पवत्तण, 'अजिअणिय सुह-
पवत्तण' (अजि ४) ।

°प्पवह देखो पवह (कुमा) ।

°प्पवेस देखो पवेस (रभा) ।

°प्पवेसि देखो पवेसि (अभि १७५) ।

°प्पसर देखो पसर = प्र + स । वक्क. °प्पसरत
(रभा) ।

°प्पसर देखो पसर = प्रसर ।

°प्पसव देखो पसव = (नाट—मालवि ३७) ।

°प्पसाय देखो पसाय = प्रसाद (रभा) ।

°प्पसुत्त देखो पसुत्त (रभा) ।

°प्पसुद (शौ) देखो पसूअ = प्रसूत (अभि
१४०) ।

°प्पहर देखो पहर = प्रहार (से २, ४, छि
२६७ ए) ।

°प्पहा देखो पहा (कुमा) ।

°प्पहाण देखो पहाण (रभा) ।

°प्पहाय देखो पहाय = प्रभाव, 'पहाउ'
(रभा) ।

°प्पहार देखो पहार (रभा) ।

°प्पहाव देखो पहाव (अभि ११६) ।

°प्पहु देखो पहु (रभा) ।

°प्पारभ देखो पारंभ (रभा) ।

°प्पिअ देखो पिअ = प्रिय (अभि ११८, मा
१८) ।

°प्पिआ देखो पिआ (कुमा) ।

°प्पिव देखो इव (प्राक २६) ।

°प्पेम देखो पेम (पि ४०४) ।

°प्पेम्म देखो पेम्म (कुमा) ।

°प्पोढ देखो पोढ (रभा) ।

°प्पस देखो फस = स्पर्श (काप्र ७४३, गा
४६२, ५५६) ।

°प्पणा देखो फणा (सुपा ५३५) ।

°प्पडा देखो फडा (कुमा) ।

°प्पफल देखो फल (पि २००) ।

°प्पफाल सक [स्फालय्] १ आघात करना ।
२ पछाडना । फालउ (पिग) ।

पुत्ती स्त्री [पौती] १ ब्रह्म-खण्ड, मुख-वक्रिका (पत्र ६०, संकोष ५४) । २ साडी, कटी-ब्रह्म (धर्मवि १७) । देखो पोत्ती ।

पुत्तुल्ल पु [पुत्र] पुत्र, लडका (प्राक् ३५) ।

पुत्थ वि [दे] मुडु, कोमल (दे ६, ५२) ।

पुत्थ पुन [पुस्त, क] १ लेख्यादि कर्म
पुत्थय } (आ १) । २ पुस्तक, पोथी,
किताब, 'पुत्थए लिहावेइ' (कुप्र ३४८),
'भवहरिओ पुत्थओ सहसा' (सम्मत ११८) ।
देखो पोत्थ ।

पुथधी देखो पुढवी (चड) ।

पुथुणी } (वै) देखो पुढवी (प्राक् १२४,
पुथुवी } पि १६०) । नाथ (वै) पु [नाथ]
राजा (प्राक् १२४) ।

पुध देखो पिध = पृथक् (ठा १०) ।

पुधं देखो पिध (हे १, १८८) ।

पुधम } (वै) देखो पुढम, पुढुम (पि
पुधुम } १०४, हे ४, ३१६) ।

पुन्न देखो पुण्ण = पुण्य, 'कह मह इत्तियापुन्ना
जं सो दोसिज पच्चक्ख' (सुर १२, ११८, उप
७६८टी, कुमा) । °करिअ वि [काडिखत्त,
°काडिखन्] पुण्य की चाहवाला (भग) ।
°कलस पु [कलश] एक राजा का नाम
(उव ७६८ टी) । °जसा स्त्री [°यसास्]
एक स्त्री का नाम (उप ७२८ टी) । °पत्तिया
स्त्री [°प्रत्यया] एक जैन मुनि-शाखा (कम्प) ।
°पिवासय वि [°पिपासक] पुण्य का
प्यासा, पुण्य की चाहवाला (भग) । °भागि
वि [°भागिन्] पुण्य का भागी, पुण्य-शाली
(सुपा ६४१) । °सम्म पु [°शर्मन्] एक
ब्राह्मण का नाम (उप ७२८ टी) । °सार पु
[°सार] एक स्वनाम-ख्यात श्रेष्ठी (उप
७२८ टी) ।

पुन्न देखो पुण्ण = पूर्ण (सुर २, ६७, उप
७६८ टी, ठा २, ३, अनु २) । °तल्ल पु
[°तल] एक जैन मुनि-गच्छ (कुप्र ६) ।
°पाय वि [°प्राय] करीब-करीब सपूर्ण,
कुछ कम पूर्ण (उप ७२८ टी) । °भइ पुं
[°भइ] १ यक्ष-विशेष (सिरि ६६६) । २
यक्ष-निकाय एक इन्द्र (ठा २, ३) । ३ एक
अन्तकृद् मुनि (अत १८) । ४ एक जैन मुनि,

भार्य श्री समुत्तविजय का एक शिष्य (कम्प) ।
पुन्नयण पु [पुण्यजन] यक्ष, एक देव-जाति
(पात्र) ।

पुन्नाग } देखो पुनाग (कम्प, कुमा, पउम
पुन्नाम } २१, ४६, पात्र) । ३ न. पुन्नाग का
पुन्नाय } फूल (कुमा. हे १, १६०) ।

पुन्नालिया } [दे] देखो पुण्णाली (सुपा
पुन्नाली } ५६६, ५६७) ।

पुन्निमा देखो पुण्णिमा (रभा) ।

पुण्णुअ वि [दे] पीन, पुष्ट, उपचित (दे ६,
५२) ।

पुष्प न [पुष्प] १ फूल, कुसुम (शाया १, १,
कम्प, सुर ३, ६५, कुमा) । एक विमानावास,
देवविमान-विशेष (देवन्द ३३५, सम ३८) ।
३ स्त्री का रज । ४ विकास । ५ आँख का
एक रोग । ६ कुवेर का विमान (हे १,
२३६, २, ५३, ६०, १५४) । °इरि पु
[गिरि] एक पर्वत का नाम (पउम ७६, १०) ।
°कत न [°कान्त] एक देव-विमान, 'पुष्प-
कंत' (सम ३८) । °करडय पु [°करण्डक]
हस्तिशीर्ष नगर का एक उद्यान, 'पुष्पकरडए
उज्जाणे' (विपा २ १) । °केतु पु [°केतु]
१ ऐरवत क्षेत्र का सातवाँ भावी तीर्थकर—
जिनदेव (सम १५४) । २ ग्रह-विशेष, ग्रहा-
धिप्रायक देव-विशेष (ठा २, ३) । °ग न
[°क] १ मूल भाग, 'भाण्डस पुष्पगतो इमेहि
कण्जेहि पडिहेहे' (श्रीप २८६) । २ पुष्प,
फूल (कम्प) । ३ देखो नीचे °य (श्रीप) ।
°चूला स्त्री [°चूला] १ भगवान् पारवनाथ
की मुख्य शिष्या का नाम (सम १५२,
कम्प) । २ एक महासती, अन्निकाचार्य की
सुयोग्य शिष्या (पडि) । ३ सुवाहुकुमार की
मुख्य पत्नी का नाम (विपा २, १) । °चूलिया
स्त्री [°चूलिका] एक जैन ग्रन्थ (निर १,
४) । °च्चणिया स्त्री [°चर्चनिका] पुष्पो से
पूजा (शाया १, २) । °च्चणिया स्त्री
[°चायिनी] फूल बिननेवाली स्त्री (पात्र) ।
°च्चजिया स्त्री [°च्चजिका] पुष्प-पात्र-विशेष
(राज) । °च्चजय न [°च्चज] एक देव-
विमान (सम ३८) । °णदि पु [°नन्दिन्]
एक राजा का नाम (ठा १०) । °णालिया
देखो °नालिया (तदु) । °दत पु [°दन्त]
१ नववाँ जिनदेव, श्री सुधिधिनाथ (सम ६२,

ठा २, ४) । २ ईशानेन्द्र के हस्ति-सैन्य का
अधिपति देव (ठा ५, १, इक) । ३ देव-
विशेष (सिरि ६६७) । °दती स्त्री [°दन्ती]
दमयन्ती की माता का नाम, एक रात्री
(कुप्र ४८) । °नालिया स्त्री [°नालिका]
पुष्प का बंट—डंठल (तदु ४) । °निजास पुं
[°निर्यास] पुष्प-रस (जीव ३) । °पुर न
[°पुर] पाटलिपुत्र, पटना शहर (राज) ।
°पूरय पु [°पूरक] पुष्प की रचना-विशेष
(शाया १, १६) । °पपभ न [°प्रभ] एक
देव-विमान (सम ३८) । °बलि पुं [°बलि]
उपचार, पुष्प-पूजा (पात्र) । °वाण पु
[°वाण] कामदेव (रभा) । °भइ स्त्री न
[°भइ] नगर-विशेष, पटना शहर (राज) ।
°भंत वि [°वत्] पुष्पवाला (शाया १, १) ।
°माल न [°माल] वैताव्य की उत्तर श्रेणि
का एक नगर (इक) । °माला स्त्री [°माल]
ऊर्ध्व लोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारो
देवी (ठा ८—पत्र ४३७) । °य पुं [°क]
१ फेन, डिएडीर (पात्र) । २ न. ईशानेन्द्र
का एक पारियायिक विमान, देव-विमान-
विशेष (ठा ८, इक, पउम ७६, २८, श्रीप) ।
३ पुष्प, फूल (कम्प) । ४ ललाट का एक
पुष्पाकार आभूषण (ज २) । देखो ऊपर
°ग । °लाई, °लावी स्त्री [°लावी] फूल
बिननेवाली स्त्री (पात्र दे १, ६) । °लेस
न [°लेस्य] एक देव-विमान (सम ३८) ।
°वई स्त्री [°वती] १ ऋतुमती स्त्री (दे ६,
६४, गा ४८०) । २ सत्यस्य नामक किपुष्प-
पेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १, शाया
२) । ३ वीसवँ जिनदेव की प्रवर्तनी—
प्रमुख साध्वी का नाम (सम १५२, पत्र
६) । ४ वैश्य-विशेष (भग) । °वण्ण न
[°वर्ण] एक देव-विमान (सम ३८) । °सिमा
न [°सिद्ध] एक देव-विमान (सम ३८) ।
°सिद्ध न [°सिद्ध] देव विमान विशेष
(सम ३८) । °सुय पु [°शुक] व्यक्ति-
वाचक नाम (उव) । °वत्त न [°वत्त]
एक देव-विमान (सम ३८) ।

पुष्पस न [दे] फेफसा, शरीर का एक
भीतरी अंग (पउम १०५, ५५) ।
पुष्पा स्त्री [दे] फूफी, पिता की बहिन
(दे ६, ५२) ।

फडिअ वि [स्फटित] खोदा हुआ, 'तो धीवै-सघेरोह नरेहिं फडिया भउत्ति सा गता' (सुपा ६१३)।

फडिअ } देखो फलिह = स्फटिक (नाट—
फडिग } रत्ना ८३), 'फडिगपाहाणनिभा'
(निचू ७)।

फडिल्ल देखो फडा-ल (चड)।

फडिह पुं [परिच] १ अगला, आगल (से १३, ३८)। २ कुठार (से ५, ५४)।

फडिहा देखो फलिहा = परिखा (से १२, ७५)।

फड्डु } पुन [दे स्पर्ध, °क] १ अश,
फड्डुग } भाग, निस्सा, गुजराती में 'फाडिउ',
फड्डु } 'कम्मियकहमिस्सा जुल्लो उक्खा य
फड्डुगु } फड्डुगुया उ' (पिंड २५३)। २

सपूर्ण गण के अधिष्ठाता के वशवर्ती गण का एक लघुतर हिस्सा, समुदाय का एक अति छोटा विभाग जो सपूर्ण समुदाय के अध्यक्ष के अधीन हो, 'गच्छागच्छि शुम्माणुम्मि फड्डाफड्डु' (औप, बृह १)। ३ द्वार आदि का छोटा छिद्र, विवर। ४ अवधिज्ञान का निर्गम स्थान, 'फड्डा य असखेजा', 'फड्डा य आणुगामी' (विसे ७३८, ७३९)। ५ समुदाय, 'तत्थ पव्वइयगा फड्डोहि एति' (आवम, आचू १)। ६ समुदाय विशेष, वर्गणा-समुदाय, 'नेहपच्चय-फड्डुगमेग अविभागवग्गणा एता' (कम्मप २८, ४४, पच ३, २८, ५, १८३, १८४, जीवस ७६), 'त इगिफड्डु सते', 'तासि खलु फड्डुगाई तु' (पच ५, १७९, १७१)। ७ वड्डु पुं [°पति] गण के अवान्तर विभाग का नायक (बृह १)।

फण पु [फण] फन, साँप की फणा (से ६, ५५, पात्र, गा २४०, सुपा १, प्रासू ५१)।

फणग पुं [दे फनक] कथा, केश सवारने का उपकरण (उत्त २२, ३०)।

फणज्जुय पु [दे] वनस्पति विशेष, 'तुलसी कएह भोराले फणज्जुए अजए य भूयणए' (परण १—पत्र ३४)।

फणस पु [पनस] कटहर का पेड (परण १, हे १, २३२, प्राप्र)।

फणा ली [फणा] फन (सुर २, २३६)।

फणि पु [फणिन्] १ साँप, सर्प, नाग (उप ३५७ टी, पात्र, सुपा ५५६, महा, कुमा)।

२ दो कला या एक गुरु अक्षर की सज्ञा (पिंग)। ३ प्राकृत-पिंगल का कर्ता, पिंगलाचार्य (पिंग)। ४ चिंध पु [°चिंह] भगवान् पारवनाथ (कुमा)। ५ पड्डु पुं [°प्रभु] १ नागकुमार देवो का एक स्वामी, धरणेन्द्र (तो ३)। २ शेष नाग (धर्मवि ५७)। ३ राय पुं [°राज] १ शेष नाग (कुप्र २७२)। २ पिंगल-कर्ता (पिंग)। ३ लआ ली [°लता] नागलता, वल्ली-विशेष, (कप्पू)। ४ वड्डु पुं [°पति] १ इन्द्र-विशेष, धरणेन्द्र (सुपा ३१)। २ नाग-राज (मोह २६)। ३ पिंगलकार (पिंग)। ४ सेहर पुं [°शेखर] प्राकृत-पिंगल का कर्ता (पिंग)।

फणिंद पु [फणीन्द्र] १ नाग-राज, शेष नाग (प्रासू ११३)। २ पिंगलकार (पिंग)।

फणिल्ल सक [चोरय] चोरी करना। फणिल्लइ (वात्वा १४६)।

फणिह पु [दे फणिह] कंचा, केश सवारने का उपकरण (सूत्र १, ४, २, ११)।

फणीसर पु [फणीश्वर] देखो फणि-चड (पिंग)।

फणुज्जय देखो फणज्जुय (राज)।

फड्ड पुं [स्पर्ध] स्पर्धा, हिंस (कुमा)।

फड्डा ली [स्पर्धा] ऊपर देखो (दे ८, १३, कुमा ३, १८)।

फड्डि वि [स्पर्धिन्] स्पर्धा करनेवाला (प्राक २३)।

फर } पुं [दे फल, °क] १ काष्ठ आदि
फरअ } का तस्ता। २ ढाल। (दे १, ७६, ६, ८२, कप्पू, सुर २, ३१)। देखो फल, फलग।

फरअ पुंन [दे स्फरक] अन्न-विशेष, 'फरएहिं छाइअण तेवि हु गिएहति जीवत' (धर्मवि ८०)।

फरक्किद वि [दे] फरका हुआ, हिला हुआ, कम्पित (कप्पू)।

फरस देखो फरिस = स्पर्श (रभा, नाट)।

फरसु पु [परशु] कुठार, कुल्हाडा, फरसा (भवि, पि २०४)। १ राम पु [°राम] बाह्याण-विशेष, जमदग्नि ऋषि का पुत्र (भत १५३)।

फरहर अक [फरफराय] फरफर आवाज करना। वड्डु फरहरत (भवि)।

फरित देखो फलिह = स्फटिक (इक)।

फरिस सक [स्पृश] छूना। फरिसइ (बड्ड), फरिसइ (प्राक २७)। कर्म. फरिसिजइ (कुमा)। कवड्डु फरिसिज्जत (धर्मवि १३६)।

फरिस } पुंन [स्पर्श, °क] स्पर्श, छूना
फरिसग } (आचा, परह १, १, गा १३२, प्राप्र, पात्र, कप्प), 'न य कीरइ तएुफरिस' (गच्छ २, ४४)।

फरिसण न [स्पर्शन] इन्द्रिय-विशेष, त्वगिन्द्रिय (कुप्र २२४)।

फरिसिय वि [स्पष्ट] छुआ हुआ (कुप्र १६, ४२)।

फरिहा देखो फलिहा = परिखा (एया १, १२)।

फरुस वि [परुष] १ कर्कश, कठिन (उवा, पात्र, हे १, २३२, प्राप्र)। २ न कुवचन, निष्ठुर वाक्य, 'ए यावि किंचो फरुसं वदेजा' (सूत्र १, १४, ७, २१)।

फरुस } पुं [दे परुष, °क] कुम्भकार,
फरुसग } कुम्हार, कोहार, कुम्भार, 'पोग्गलमो-यगफरुसगदते' (बृह ४)। ३ साला ली [°शाला] कुम्भकार-गृह (बृह ३)।

फरुसिया ली [परुषता, पारुष्य] कर्कशता, निष्ठुरता (आचा)।

फल अक [फल] फलना, फलान्वित होना। फलइ (गा १७, ८६४), फलति (सिदि १२८२)। वड्डु. फलंत (से ७, ५६)।

फल पुन [फल] १ वृक्षादि का शक्य (आचा, कप्प, कुमा, ठा ९, जी १०)। २ लाभ, 'पुच्छइ ते सुमिणाय एएसि किमिह मह फलो होइ' (उप ६८६ टी)। ३ कार्य, 'हेउफलभावो होति' (पंचव १, धर्म १)। ४ इष्टानिष्ठ-कृत कर्म का शुभ या अशुभ फल—परिणाम (सम ७२, हे ४, ३३५)। ५ उद्देश्य। ६ प्रयोजन। ७ त्रिफला। ८ जायफल। ९ बाण का अग्र भाग। १० फाल। ११ दान। १२ मुष्क, अरुणकोष। १३ ढाल। १४ ककौल, गन्ध द्रव्य-विशेष (हे १, २३)। १५ अश्रु भाग, 'अद्रु वा मुट्टिया अद्रु

पुराअण वि [पुरातन] पुराना, प्राचीन ।
जी. 'णी (नाट—चैत १३१) ।

पुराकर सक [पुरा + कृ] आगे करना ।
पुराकरंति (सूत्र १, ५, २, ५) ।

पुराण वि [पुराण] १ पुराना, पुरातन
(गजड, उत्त ८, १२) । २ न. व्यासादि-
मुनि-प्रणीत ग्रन्थ-विशेष, पुरातन इतिहास के
द्वारा जिसमें धर्म-तत्त्व निरूपित किया जाता
हो वह शास्त्र (धर्मवि ३८, भवि) । 'पुरिस
पुं [पुरुष] श्रीकृष्ण (बजा १२२) ।

पुरिकोवेर पु. न. [पुरीकौवेर] देश-विशेष
(पचम ६८, ६७) ।

पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा (सूत्र २, १, ६) ।

पुरिम देखो पुक्व = पूर्व (हे २, १३५, प्राक
२८, भग कुमा), 'पचवओ खलु धम्मो
पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स' (पव
७४, पचा १७, १) । 'इह पुन [ार्थ]
१ पूर्वार्थ । २ प्रत्याख्यान-विशेष (पचा ५,
पडि) । ३ तप-विशेष, निर्विकृतिक तप
(संबोध ५७) । 'डिहय वि [र्धिक]
'पुरिमइह' प्रत्याख्यान करनेवाला (पएह २,
१, ठा ५, १) ।

पुरिम वि [पौरस्स्य] अग्र-भव, अग्रतन, आगे
का, 'इय पुव्वुत्तचज्जे काणेषु पडमदुगि खु
मिच्छत्तं । पुरिमदुगे सम्मत्तं' (संबोध ५२) ।

पुरिम पुं [दे] प्रस्फोटन, प्रतिबलेहन की क्रिया-
विशेष, 'छ पुरिमा नव खोडा' (शोध २६५) ।

पुरिमताल न [पुरिमताल] नगर-विशेष
(विपा १, ३, औप) ।

पुरिमिल्ल वि [पूर्वाय] पहले का, पुरातन,
प्राचीन, 'आसि नरा पुरिमिल्ला, ता कि
अम्हेवि तह होमो' (बिद्य ११५) ।

पुरिल पु [दे] दैत्य, दानव (बड्) ।

पुरिल्ल वि [पुरातन] पुरा-भव, पहले का,
पूर्ववर्ती (विसे १३२६, हे २, १६३) ।

पुरिल्ल वि [पौरस्स्य] पुरो-भव, पुरो-वर्ती,
अग्र-नामी (से १३, २, हे २, १६३, प्राप्र,
बड्) ।

पुरिल्ल वि [पौर] पुर-भव, नागरिक (प्राक
३५, हे २, १६३) ।

पुरिल्ल वि [दे] प्रवर, श्रेष्ठ (दे ६, ५३) ।

पुरिल्ल देखो पुरिल्ला = पुरा, पुरस्, 'पुरिल्लो'
(हे २, १६४ टि. पड्) ।

पुरिल्लदेव पुं [दे] असुर, दानव (दे ६, ५५) ।

पुरिल्लपहाणा जी [दे] सांप की दाढ़ (दे ६,
५६) ।

पुरिल्ला अ [पुरा] १ निरन्तर क्रिया-करण,
विच्छेद-रहित क्रिया करना । २ प्राचीन,
पुराना । ३ पुराने समय में । ४ भावी । ५
निकट, सन्निकट । ६ इतिहास, पुरावृत्त (हे
२, १६४) ।

पुरिल्ला अ [पुरस] आगे, अग्रत (हे २,
१६४) ।

पुरिस पुन [पुरुष] १ पुमान्, नर, मर्द (हे
१, १२४, भग, कुमा, प्रासु १२६), 'इत्थीणि
वा पुरिसारिण वा' (आचा २, ११, १८) ।
२ जीव, जीवात्मा (विसे २०६०, सूत्र २,
१, २६) । ३ ईश्वर (सूत्र २, १, २६) ।
४ शङ्कु, छाया नापने का काष्ठादि-निमित्त
कीलक । ५ पुरुष-शरीर (एदि) । 'कार,
'कार, 'गार पु [कार] १ पौरुष, पुरुषपन,
पुरुष-चेष्टा, पुरुष-प्रयत्न (प्रासु ४३, उवा, सुर
२, ३५, उवर ४७) । २ पुरुषत्व का
अभिमान (औप) । 'जाय पु [जात]
पुरुष । २ पुरुष-जातीय (सूत्र २, १, ६, ७,
ठा ३, १, २, ४, १) । 'जुग न [युग]
क्रम स्थित पुरुष (सम ६८) । 'जेट्ट पु
[ज्येष्ठ] प्रशस्त पुरुष (पचा १७, १०) ।
'त्त, 'त्तण न [त्त्व] पौरुष, पुरुषपन, 'नहि
नियञ्जुवइसलहिमा पुरिसा पुरिसत्तएमुविति'
(सुर २, २४, महा, सुपा ८४) । 'एथ पु
[ार्थ] धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुष-
प्रयोजन, 'सयलपुरिसत्थकारणमइदुलहो
माणुसो भवो एसो' (धर्मवि ८२, कुमा,
सुपा १२६) । 'पुडरीअ पु [पुण्डरीक]
इस अन्नसर्पिणी काल में जल्पन षष्ठ वासुदेव
(पव २१०) । 'पणीय वि [प्रणीत] १
ईश्वर-निमित्त । २ जीव-रचित (सूत्र २, १,
२६) । 'मेह पु [मेव] यज्ञ विशेष, जिसमें
पुरुष का होम किया जाय वह यज्ञ (राज) ।
'थार देखो 'कार (गजड, सुर २, १६, सुपा
२७१) । 'लक्षणा न [लक्षण] कला-
विशेष, पुरुष के शुभाशुभ चिह्न पहचानने की

एक सामुद्रिक कला (ज २) । 'लिंण, न
[लिङ्ग] पुरुष-चिह्न । 'सिंणसिद्ध पु
[लिङ्गसिद्ध] पुरुष-शरीर से जो मुक्त हुए
हो वह (एदि) । 'वयण न [वचन]
पुलिग शब्द (आचा २, ४, १, ३) । 'वर पु
[वर] श्रेष्ठ पुरुष (औप) । 'वरगधहत्थि पु
[वरगन्धहस्तिन्] १ पुरुषों में श्रेष्ठ
गन्धहस्ती के तुल्य । २ जिन-देव (भग, पडि) ।
'वरपुडरीय पु [वरपुण्डरीक] १ पुरुषों
में श्रेष्ठ पद के समान । २ जिन देव, ब्रह्म
(भग, पडि) । 'विजय पु [विजय,
'विजय] ज्ञान-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।
'वेय पुं [वेद] १ कर्म विशेष, जिसके
उदय से पुरुष की स्त्री-सभोग की इच्छा होती
है वह कर्म । २ पुरुष की स्त्री-सभोग की अभि-
लाषा (पएण २३, सम १५०) । 'सिंह,
'सीह पु [सिंह] १ पुरुषों में सिंह के
समान, श्रेष्ठ पुरुष । २ पु जिनदेव, जिन
भगवान् (भग, पडि) । ३ भगवान् धर्मनाथ
के प्रथम आवक का नाम (विचार ३७८) ।
४ इस अन्नसर्पिणी काल में जल्पन पंचम
वासुदेव (सम १०५, पचम ५, १५४ पव
२१०) । 'सेण पु [सेन] १ भगवद्
नेमिनाथ के पास दीक्षा लेकर मोक्ष करनेवाला
एक अन्तर्कृद् महापुरुष, जो वासुदेव के अन्वय
पुत्र थे (अत १४) । २ भगवान् महावीर के
पास दीक्षा लेकर अनुत्तर विमान में उलट
होनेवाले एक मुनि, जो राजा श्रेणिक के
पुत्र थे (अनु १) । 'दाणिअ, 'दाणीय पुं
[दानीय] उपादेश पुरुष, आत पुरुष (सम
१३, कप) ।

पुरिसकारिआ जी [पुरुषकारिका, 'ता]
पुरुषार्थ, प्रयत्न (दस, ५, २, ६) ।

पुरिसाअ अक [पुरुषाय] विपरीत मैथुन
करना । वक्क पुरिसाअत (गा १६६, ३६१) ।

पुरिसाइअ न [पुरुषायित] विपरीत मैथुन
(दे १, ४२) ।

पुरिसाइर वि [पुरुषायित्] विपरीत त्त
करनेवाला, 'दरपुरिसाइरि विसमिदि सुत्राण
पुरिसाण जं दुक्खं' (गा ५२, ४८६) ।

पुरिसुत्तम पुं [पुरोत्तम] १ उत्तम
पुरिसोत्तम] पुरुष, श्रेष्ठ पुमान् । २ जिन

फारक—फिर

फेला हुमा (सुर २, २३६, काप्र १७०, सुपा १६४, कुप्र ५१)।

फारक वि [दे स्फारक] स्फरकात्र को धारण करनेवाला, 'त नासत दट्टु' फारकका नपुंसव्ययभ्रो बुक्का' (धर्मवि ८०)।

फारुसिय न [फारुष्य] पक्षता, कठोरता, कर्कशता, 'फारुसिय समाइयति' (आचा)।

फाल देखो फाल।

फाल देखो फाल। फालेइ (हे १, १६८, २३२)। कवक फालिजंत, फालिजमाण (गा १५३, सम्मत १७४)। संक. फालेरुण (गा ४८६)।

फाल पुन [फाल] १ लोहमय कुश, एक प्रकार की लोहे की लम्बी कील (उवा)। २ फाल से की जाती एक प्रकार की दिव्य-परीक्षा, शपथ-विशेष (सुपा १८६)। ३ फलाग, लॉफ, 'दीवि ज्व विहलफालो' (कुप्र १२)।

फालण न [पाटन, स्फाटन] विदारण, "खोयो कि न सहेदि सोरसुहभ्रो त तारिसं फालण" (रंभा, सम १२५)।

फालण देखो फालण।

फाला खो [फाला] फलाङ्ग, लॉफ (कुप्र २७८, कुलक ३२)।

फालि खी [दे फालि] १ फली, खीमी, फलियां २ शाखा "सिबलिफालिज्व अगिणया दड्ढो" (सथा ८५)। ३ फॉक, टुकड़ा "नागवल्लीदलपुगीफलफालिपमुह—" (रयण ५५)।

फालिअ वि [पाटित, स्फाटित] विदारित (कुमा, पएह १, १—पत्र, पउम ८२, ३१, श्रौप)।

फालिअ न [दे फालिक] देश विशेष में होता वज्र-विशेष, "अमिनाणि वा गजलाणि वा फालियाणि वा कायहाणि वा (आचा २, ५, १, ७)।

फालिअ } पु [स्फाटिक] १ रत्न-विशेष
फालिअ } (कम्प)। २ वि. स्फाटिक-रत्न का
फालिअ } (वि २२६, उप १८६, सुपा ८८)।

फालिहइ पु [परिभद्र] १ फरहद का पेड़। २ देवदारु का पेड़। ३ निम्ब का पेड़ (१, २३२)।

फास सक [स्पृश, स्पर्श] १ स्पर्श करना, छूना। २ पालन करना। फासइ, फासेइ (हे ४, १८२, भग)। कर्म फासिजइ (कुमा)। वक्र. फासत, फासयत (पचा १०, ३५ पएह २, ३—पत्र १२३)। कवक फासा-इजमाण (भग—अ)। सक्र फासइत्ता, फासित्ता (उत्त २६, १, सुख २६, १, कम्प, भग)।

फास पुन [स्पर्श] १ स्पर्श, छूना (भग, प्रासू १०४)। २ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ दुःख विशेष, "एयाई फासाइ फुसति बाल" (सूअ १, ५, २, २२)। ४ शब्द आदि विषय (उत्त ४, ११)। ५ स्पर्श इन्द्रिय, त्वचा (भग)। ६ रोग। ७ ग्रहण। ८ युद्ध, लडाई। ९ गुप्त चर, जासूस। १० वायु, पवन। ११ दान। १२ 'क' से लेकर 'भ' तक के अक्षर। १३ वि. स्पर्श करनेवाला (हे २, ६२)। °कीव पु [°कीव] क्लीव का एक भेद (निचू ४)। °णाम, °नाम न [°नामन्] कर्म-विशेष, कर्कश आदि स्पर्श का कारणभूत कर्म (राज, सम ६७)। °मत वि [°मत्] स्पर्शवाला (ठा ५, ३, भग)। °मय वि [°मय] स्पर्श-मय, स्पर्श से निर्वृत्त, 'फासा-मयाभ्रो सोक्खाभ्रो' (ठा १०)।

फासरा वि [स्पर्शक] स्पर्श करनेवाला (अष्क १०४)।

फासण न [स्पर्शन] १ स्पर्श-क्रिया (था १६)। २ स्पर्शोद्भिद्य, त्वचा (पव ६७)।

फासणया } खी [स्पर्शना] १ स्पर्श-क्रिया
फासणा } (ठा ६, स १५६, जीवस १८१)। २ प्राप्ति (राज)।

फासिअ वि [स्पृष्ट] १ छुआ हुआ (नव ४१, विसे २७८३)। २ प्राप्त, 'उचिए काले विहिया पत्त ज फासिय तय भणिय' (पव ४)।

फासिअ वि [स्पर्शिक] स्पर्श करनेवाला (विसे १००१)।

फासिअ वि [स्पर्शित] १ स्पर्श-युक्त, स्पृष्ट। २ प्राप्त (पव ४—गाथा २१२)।

फासिंदिय न [स्पर्शोद्भिद्य] त्वगिन्द्रिय (भग, शाया १, १७)।

फासु } वि [प्रासु, °क] अचेतन, जीव-
फासुअ } रहित, निर्जीव, अचित्त वस्तु (भग;
फासुग } पचा १०, ६, श्रौप, उवा, शाया १, ५, पउम ८२, ५)।

फिक्कर अक [फिक्त् + कृ] प्रेत—पिशाच का चिह्नाना, 'तह फिक्करति पेया' (सुपा ४६२)।

फिक्कि पुखो [दे] हर्ष, खुशी (दे ६, ८३)।

फिज न [दे रिफिक्] नितम्ब, चूतर, जघा का उपरि-भाग (सुख ८, १३)।

फिट्ट अक [अश्र] १ नीचे गिरना। २ दूटना, भांगना। ३ ध्वस्त होना। ४ पलायन करना, भागना। फिट्टइ (हे ४, १७७, प्राक्छ ७६, गा १८३, चेइय ५८७), फिट्टई (उत्त २०, ३०), फिट्टीति (सिरि १२६३)। भवि फिट्टिहिइ, फिट्टिहिसि (कुप्र १६५, गा ७६८)।

फिट्ट वि [अश्र] विनष्ट, 'पाणिणएण तरह विवअ न फिट्टा' (गा ६३, भवि)।

फिट्टा खो [दे] १ मार्ग, रास्ता, 'ता फिट्टाए मिलिय कुट्टियनरपेडियं एण' (सिरि २६६)। २ प्रणाम-विशेष, मार्ग में किया जाता प्रणाम (गुमा १)। °मित्त पुंन [°मित्त] मार्ग में मिलने पर प्रणाम करने तक की भ्रमधिवाली मित्रतावाला (सुपा १८६)।

फिड देखो फिट्ट। फिडइ (हे ४, १७७)।

फिडिअ वि [अश्र, स्फिटित] १ अ-श-आप्त, नष्ट, च्युत (श्रौष ७, १११, ११२, से ४, ५४, ६४)। २ अतिक्रान्त, उल्लघित (श्रौषभा १७४, श्रौष)।

फिडु वि [दे] वामन (दे ६, ८४)।

फिडप वि [दे] कुशिम, बनावटी (दे ६, ८३)।

फिडिफिस न [दे] अन्न—अर्थात् स्थित मास-विशेष, फेकडा (सूअनि ७२, पएह १, १)।

फिर सक [गम्] फिरना, चलना। वक्र 'फिरत (धर्मवि ८१)।

पुलासिअ पुं [दे] अग्नि-कण (दे ६, ५५) ।
 पुरिइ पु [पुलिन्द] १ अनायं देश-विशेष
 (दे ४) । २ पुत्री, उस देश में रहनेवाला मनुष्य
 (परह १, १, औप, कप्पू, जव) । स्त्री, 'दी
 २ गा १, १, औप) ।
 पुलि न [पुलिन] तट, किनारा, 'ओइएणो
 'पुलिण्णो' (पउम १०, ५४) । २ लगातार
 इन दिनों का उपवास (सवोध ५८) ।
 पुत्त न [पुत्तित] गति-विशेष (औप) ।
 पुत्त वि [पुत्त] दग्ध (पाम) ।
 पुत्त सक्क [दृश, प्र + लोक्] देखना ।
 पुत्त एह (हे ४, १८१, सुर १, ८६) । वक्क
 पुत्तअत्त, पुलोपंत (पि १०४, सुर ३,
 ११८) ।
 पुत्तण न [दर्शन, प्रलोकन] विलोकन (दे
 ६, ३०, गा ३२२) ।
 पुत्तअ वि [दृष्ट, प्रलोकित] १ देखा हुआ
 (सुर ३, १६४) । २ न अवलोकन (से ७,
 ६) ।
 पुत्तअत्त देखो पुलोअ ।
 पुत्तस पुं [पुत्तमन्] दैत्य विशेष । १ तणया
 स्त्री [तनया] शची, इन्द्राणी (पाम) ।
 पुत्तसो गो स्त्री [पौलोमी] इन्द्राणी (प्राक्क १०,
 हे १, १६०) ।
 पुत्तस देखो पुलोअ । पुलोवेदि (शौ) (पि
 १८४) ।
 पुत्तस पु [पुत्तस] बाह, वहन (गउड) ।
 पुत्त [दे] देखो पोत्त (सुख ६, १) ।
 पुत्त पुत्त [दे] १ व्याघ्र, शेर (दे ६, ७६,
 पाम) । २ सिंह, पञ्चानन, मृगेन्द्र (दे ६,
 ७६) । स्त्री 'को पियइ पय व पुत्तिए' (सुपा
 ३१२) ।
 पुत्त सक्क [पुत्त] गति करना, चलना ।
 पुत्त पुत्त [पुत्त] (पि ४७३), पुत्तवि (भग
 १७—पत्र ६७०, टी—पत्र ६७३) ।
 पुत्त देखो पुण = पू ।
 पुत्त वि [पूर्व] १ दिशा, देश और काल की
 भ्रष्टा से पहले का, आद्य, प्रथम (ठा ४, ४,
 जी १, प्राप् १२२) । २ समस्त, सकल ।
 ३ ज्येष्ठ भ्राता (हे २, १३५, पद्) । ४ पुन
 'काल-मान विशेष, चौरासी लाख की चौरासी

लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो उतने
 वर्ष (ठा २, ४, सम ७४, जी ३७, इक) ।
 ५ जैन ग्रन्थाश-विशेष, बारहवें अग ग्रन्थ का
 एक विशाल विभाग, अव्ययन, परिच्छेद,
 'चोइसपुव्वी' (विपा १, १) । ६ द्वन्द्व,
 वधू-वर आदि युग्म, 'पुव्वइएणिए' (आचा
 २, ११, १३) । ७ पूर्व-ग्रन्थ का ज्ञान (कम्म
 १, ७) । ८ कारण, हेतु (एदि) । 'कालिय
 वि [कालिक] पूर्वं काल का, पूर्व काल से
 संबन्ध रखनेवाला (परह १, २—पत्र २८) ।
 १ गय न [गत] जैन शाखाश-विशेष, बारहवें
 अग का विभाग-विशेष (ठा १०—पत्र ४६१) ।
 १ गह पु [गहण] २ दिन का पूर्व भाग,
 सुबह से दो पहर तक का समय (हे १,
 ६७) । २ तप-विशेष, 'पुरिमइ' तप (सवोध
 ५८) । ३ तप पुन [तपस्] नीतराग
 अवस्था के पहले का—सराग अवस्था का
 तप (भग) । 'दारिअ वि [दारिअ] पूर्व
 दिशा में गमन करने में कल्याणकारी (नक्षत्र)
 (सम १२) । 'इ पुन [अर्थ] पहला आधा
 (नाट) । 'धर वि [धर] पूर्व-ग्रन्थ का ज्ञान-
 वाला (परह २, १) । 'पय न [पद्]
 उत्सर्ग-स्थान (निचू १) । 'पुट्टवया स्त्री
 [प्रोत्तपदा] नक्षत्र-विशेष (सुज १०, ५) ।
 'पुरिस पु [पुरिष] पूर्वज, पुरखा (सुर २,
 १६४) । 'पपओग पु [प्रयोग] पहले की
 क्रिया, पूर्व काल का प्रयत्न (भग ८, ६) ।
 'फग्गुणी स्त्री [फाल्गुनी] नक्षत्र-विशेष
 (राज) । 'भइवया स्त्री [भाद्रपदा] नक्षत्र-
 विशेष (राज) । 'भघ पु [भघ] गत जन्म,
 अतीत जन्म (खाया १, १) । 'भविय वि
 [भविक] पूर्वजन्म सवधी (भवि) । 'य पु
 [य] पूर्व पुरुष, पुरखा (पुपा २३२) ।
 'रत्त पु [रात्र] रात्रि का पूर्व भाग (भग,
 महा) । 'व न [वत्] अनुमान प्रमाण
 का एक भेद (अणु) । 'विदेह पु [विदेह]
 महाविदेह वर्ष का पूर्वार्ध हिस्सा (ठा २, ३,
 इक) । 'समास पुन [समास] एक से
 ज्यादा पूर्व शब्दों का ज्ञान (कम्म १, ७) ।
 'सुय न [श्रुत] पूर्व का ज्ञान (राज) ।
 'सूरि पु [सूरि] पूर्वार्ध, प्राचीन आचार्य
 (जीव १) । 'हर देखो धर (पउम ११८,

१२१) । 'पुपुव्वी स्त्री [पुपूर्वी] क्रम,
 परिपाटी (भग, विपा १, १; औप, महा) ।
 'गह देखो गह (हे १, ६७, पद्) ।
 'फग्गुणी देखो फग्गुणी (सम ७, इक) ।
 'भइवया देखो भइवया (सम ७) ।
 'साढा स्त्री [पाढा] नक्षत्र-विशेष (सम
 ६) ।
 पुत्तवग पुन [पूर्वाह्न] १ समय-परिमाण-
 विशेष, चौरासी लाख वर्ष (ठा २, ४, इक) ।
 २ पक्ष के पहले दिन का नाम, प्रतिपत् (सुज
 १०, १४) ।
 पुत्तवग वि [दे] मुरिडत (पद्) ।
 पुत्तवा स्त्री [पूर्वा] पूर्व दिशा (कुमा) ।
 पुत्तवाड वि [दे] पीन, मासल, पुट्ट (दे ६,
 ५२) ।
 पुत्तवामेव अ [पूर्वमेव] पहले ही (कस) ।
 पुत्तवामेवईणय न [पूर्वावकीर्णक] नगर-विशेष
 (इक) ।
 पुत्तवि वि [पूर्विन्] पूर्व-शास्त्र का जानकार
 (विपा १, १, राज) ।
 पुत्तवि, क्वि वि [पूर्वम] पहिले, पूर्व में
 पुत्तवि (राज, जवा, सुर १, १६४, ४,
 १११, औप) । 'सथव पु [संस्तव] पूर्व
 में की जाती श्रद्धा, जैन मुनि की शिक्षा का
 एक दोष, शिक्षा-प्राप्ति के पहले दायक की
 स्तुति करना (ठा ३, ४) ।
 पुत्तविम पुत्त [पूर्वत्व] पहिलापन, प्रथमता
 (पद्) ।
 पुत्तविल वि [पूर्व, पूर्विय] पहिले का, पूर्व
 का, 'पुत्तविलस करण' (वेइय ८८६),
 'पुत्तविलए किचि विट्टकम्म' (निसा ४, सुपा
 ३४६, सण) ।
 पुत्तवुत्त वि [पूर्वोक्त] पहले कहा हुआ, पूर्व
 में उक्त (सुर २, २४८) ।
 पुत्तवुत्तरा स्त्री [पूर्वोत्तरा] ईशान कोण
 (राज) ।
 पुत्त सक्क [प्र + लब्ध, मृज्] साफ
 करना, शुद्ध करना, पीछना । पुत्तइ (प्राक्क
 ६६, हे ४, १०५, गा ४३३) । कवक,
 पुत्तसिजत (गा २०६) ।
 पुत्त देखो पुत्त (प्राक्क २६, प्राप) ।

फुरफुर अक [पोस्फुराय्] खूब कांपना, थरथराना, तडफडाना। फुरफुरेजा (महानि १)। वक़ फुरफुरत, फुरफुरेत (सुर १४, २३३, स ६६६, २५६)।

फुरिअ वि [स्फुरित] १ कम्पित, हिला हुआ, फरका हुआ, चलित (दे ६, ८४, सुर ५, २२६, गा १३७)। २ दीप्त (दे ६, ८४)।

फुरिअ वि [दे] निन्दित (दे ६, ८४)।

फुरफुर देखो फुरफुर। वक़ फुरफुरत, फुरफुरेत (परह १, ३, पिड ५६०, सुर ७, २३१, राया १, ८—पत्र १३३)।

फुल देखो फुड = स्फुट्। फुलइ (नाट)। फुले (अप) (पिंग)।

फुल (अप) देखो फुर = स्फुर। फुला (पिंग)।

फुल (अप) देखो फुड = स्फुट् (पिंग)।

फुल (अप) देखो फुल्ल = फुल्ल (पिंग)।

फुलिअ देखो फुडिअ = स्फुटित (से ५, ३०)।

फुलिअ (अप) देखो फुलिअ (पिंग)।

फुलिअ पु [स्फुलिङ्ग] अग्नि कण (राया १, १, दे ६, १३५, महा)।

फुल्ल अक [फुल्ल] फूलना, पुष्प-युक्त होना, विकसना। फुल्लइ, फुल्लप, फुल्लेइ (रभा, सम्मत १४०), फुल्लति (हे २, २६)। भवि फुल्लिहिंसि (गा ८०२)।

फुल्ल देखो कम = क्म। फुल्लइ (धात्वा १४६)।

फुल्ल न [फुल्ल] १ फूल, पुष्प (कुमा, धर्मवि २०, सम्मत १४३, दसनि १)। २ फूला हुआ, पुष्पित (भग, राया १, १—पत्र १८, कुमा)। ३ मालिया बी [मालिका] फूल बेचनेवाली, मालाकार की बी, मालिन (सुर ३, ७४)। ४ वल्लि बी [वल्लि] पुष्प-प्रधान लता (राया १, १)।

फुल्लयय पु [फुल्लयय, पुष्पयय] अमर, भँवरा (उप ६८६ टी)।

फुल्लधुअ पु [दे] अमर, भौरा (दे, ६, ८५, पात्र, कुमा)।

फुल्लग न [फुल्लक] पुष्प की आकृतिवाला ललाट का आभूषण (औप)।

फुल्लण न [फुल्लन] विकास (वज्जा १५२)।

फुल्लया बी [फुल्ला, पुष्पा] बल्लो-विशेष, पुष्पाह्ला; शतपुष्पा, सोया का गाछ, 'दहफुल्लय-
७८

कोगलिमा (? मो) गली य तह अक्खोदीया' (परह १—पत्र ३३)।

फुल्लवड न [दे] पुष्प-विशेष, मदिरा-वामक फूल (कुप्र ४५३)।

फुल्लविय } वि [फुल्लित] फुलाया हुआ
फुल्लविय } (सम्मत १४०, विक्र २३)।

फुल्लिअ वि [फुल्लित] पुष्पित, विकासित (अत १२, स ३०३, सम्मत १४०, २२७)।

फुल्लिम पुखी [फुल्लता] विकास, फूलन, 'अच्छउ ता फलकाले फुल्लिमसमए वि कालिमा वयणे।

इय कलिउ व पलासो चत्तो पत्तेहिं किविणो व्व' (सुर ३, ४४)।

फुल्लिर वि [फुल्लित्] फूलनेवाला, प्रफुल्ल, 'हिययण दणचदणफुल्लिरफुल्लेहिं' (सम्मत २१४)।

फुस सक [अम्] अमण करना। फुसइ (हे ४, १६१)।

फुस सक [सृज्] मार्जन करना, पोछना, साफ करना। फुसइ (हे ४, १०५, भवि)। कर्म फुसिज्इ, फुसिज्उ (कुमा, सुपा १२४)। वक़ फुसत, फुसमाण (भवि, कुप्र २८५)। संक़ फुसिऊण (महा)।

फुस सक [स्पृश्] स्पर्श करना, छूना। फुसइ (भग, औप, उत २, ६), फुसति (विसे २०२३), फुसंतु (भग)। वक़ फुसत, फुसमाण (शोध ३८६, भग)। संक़ फुसिअ, फुसित्ता, फुसित्ताण (पंच २, ३८, भग, औप, पि ५८३)। क्क. फुस्स (ठा ३, २)।

फुसण न [स्पर्शन] स्पर्श-क्रिया (भग, सुपा ५)।

फुसणा बी [स्पर्शना] ऊपर देखो (विसे ४३२, नव ३२)।

फुसिअ देखो फुस = स्पृश्।

फुसिअ वि [स्पृष्ट] छुआ हुआ (जीवस १६६)।

फुसिअ वि [सृष्ट] पोछा हुआ (उप पृ ३४५ सुपा २११, कुप्र २३१)।

फुसिअ पुन [पृपत्] १ विन्दु, बुन्द, बूँद (आचा, कप्प)। २ विन्दु-पात (सम ६०)।

फुसिअ वि [अमित] धुमाया हुआ (कुमा ७, ४)।

फुसिआ बी [दे] बल्लो विशेष, 'सेसविदुगो-त्तफुसिया' (परएण १—पत्र ३३)।

फुस्स देखो फुस = स्पृश्।

फूअ पुं [दे] लोहकार, लोहार (दे ६, ८५)।

फूम देखो फुम। वक़ फूमत (राज)।

फूमिय वि [फूत्कृत] फूँका हुआ (उप पृ १४१)।

फूल देखो फुल्ल = फुल्ल, 'फलफूलब्बल्लिकट्टा मूलगपत्ताणि वीयाणि' (जी १३)।

फेक्कार पु [फेत्कार] १ शृगाल की आवाज (सुर ६, २०४)। २ आवाज, चिल्लाहट (कप्प)।

फेक्कारिय न [फेत्कारित] ऊपर देखो (स ३७०)।

फेड सक [स्फेटय्] १ विनाश करना। २ दूर हटाना। ३ परित्याग करना। ४ उद्घाटन करना। फेडइ, फेडेइ, फेडति (उव, हे ४, ३५८, सबोध ५४, स ४१४)। कर्म-फेडिज्इ (भवि)।

फेडण न [स्फेटन] १ विनाश। २ अपनयन (पव १३५)।

फेडणया बी [स्फेटना] ऊपर देखो (पिड ३८७)।

फेडावणिय न [दे] विवाह समय की एक रीति, वधू को प्रथम बार लजा-परिहार के वनत दिया जाता उपहार (स ७८)।

फेडिअ वि [स्फेटित] १ नष्ट किया हुआ-विनाशित (पउम ३६, २२)। २ त्याजित (सिरि ६५५)। ३ अपनीत (शोधभा ४२)। ४ उद्घाटित (स ७८)।

फेण पु [फेण, फेन] फेण, भाग, जल-मल, पानी आदि के ऊपर का बुदबुदाकार पदार्थ (पात्र, राया १, १—पत्र ६२, कप्प)। ३ मालिणी बी [मालिनी], नदी-विशेष (ठा २, ३, इक)।

फेणवध } पु [दे] वच्छ (दे ६, ८५)।

फेणाय अक [फेणाय्, फेनाय्] फेण—फेन का वमन करना भाग निकालना। वक़ फेणायमाण (प्रयौ ७४)।

पूइकएणो (उत्त १, ४) । न बुझ-विशेष, एकात्मिक ब्रह्म की एक जाति, 'पूई य निव-कए' (पएण १—पत्र ३१) । 'कम्म पुन [कर्मन्] मुनि-शिक्षा का एक दोष, पवित्र वस्तु मे अपवित्र वस्तु को मिलाकर दी जाती भिक्षा का ग्रहण (ठा ३, ४ टी, औप, पचा १३, ५) । 'म वि [मत्] १ दुर्गन्वी । २ अपवित्र (तदु ३८) ।

पूइ वि [पूति कुयित, सडा हुआ (भाचा २, १, ८, ४) । 'पिन्नाग पुन [पिप्याक] सर्प-खल, सरसो की खली (दस ५, २, २२) ।

पूइअ वि [पूयित] ऊपर देखो (राय १८) । पूइआलुग न [दे पूत्यालुक] जल में होने वाली वनस्पति-विशेष (भाचा २, १, ८—सूत्र ४७) ।

पूइज्जत देखो पूअ = पूजय् ।

पूइम वि [पूजय] पूजा योग्य, सम्माननीय, 'जया य पूइमो होइ पच्छा होइ अपूइमो' (दस १, ४) ।

पूइय वि [पूजित] अचित्त, सेवित (औप, उव) ।

पूइय वि [पूतिक] १ अपवित्र, अशुद्ध, दूषित (पएण २, ५, उप वृ २१०) । २ दुर्गन्वी, दुष्ट गन्धवाला (एगामा १, ८, तदु ४१) । ३ पूति नामक भिक्षा-दोष से युक्त (पिंड २६८) ।

पूइय देखो पोइय = (दे), 'बलो गमो पूइया-वर्ण' (सुख २, २६, उप) ।

पूअअव्व देखो पूअ = पूजय् ।

पूअरिअ न [दे] कार्य, काम, काज, प्रयोजन (दे ६, ५७) ।

पूग पुं [पूग] १ समूह, सघात (मोह २८) । २ देखो पूअ = पूग (स ७०, ७१) ।

पूगी स्त्री [पूगी] सुपारी का पेड़ । 'फल न [फल] सुपारी, कसैली (रयण ५५) ।

पूज देखो पूअ = पूजय् । कर्म पूजए (उव) । वक्क पूजयत्त (विसे २८८८) । कू, पूज्ज, पूज (पलम ११, ६७, सुपा १८०, सुर १, १७, उवर १६६, उव, उप ५६८) ।

पूजग देखो पूअय (पचा ४, ४४) ।

पूजण देखो पूअण (पचा ६, ३८) ।

पूजा देखो पूआ = पूजा (उप १०१६) ।

पूजिय देखो पूइय = पूजित (औप) ।

पूण पु [दे] हस्ती, हाथी (दे ६, ५६) ।

पूणिआ } स्त्री [दे] पूणी, पुनी, खई की
पूणी } पहल (दे ६, ७८, ६, ५६) ।

पूण देखो पूअळ (पिंड ५५७) ।

पूयइ पु [पूपकिन] हलवाई (एदि १६४) ।

पूयंत देखो पूअ = पूजय् ।

पूयली स्त्री [दे] रोटी (भाचा २, १ ८, ६) ।

पूयावणा स्त्री [पूजना] पूजा कराना (सबोध १५) ।

पूर सक [पूरय] प्रति कराना, भरना । पूरइ, पूरए (हि ४, १६६, औप, भग, महा, पि ४६२) । वक्क, पूरंत, पूरयत्त (कुमा, कप्प, औप) । कवक्क पुज्जत, पुज्जमाण, पूरिज्जत, पूरत, पूरमाण (उप वृ १५४, सुपा ६८, उप १३६ टी, भवि, ना १६६, से ११, ६३, ६, ६७) । सक्क पूरित्ता (भग), पूरि (अप) (पिग) । हेक्क पूरिइत्तए (पि ५७८) । कू पूरिअव्व (से ११, ४४) ।

पूर पुं [पूर] १ जल समूह, जल-अवाह, जल-धारा (कुमा) । २ लावण-विशेष, 'कप्परपूरसहिए तबोले' (सुर २, ६०) । ३ वि पूरा, पूर्ण, 'पूराणिय से सनं पणइमणोरहेहि अज्जेव सत्त राइदियाइ, भविस्सइ य सुए सामिणी विजासिदी' (स ३६३) ।

पूरइत्तअ (शौ) वि [पूरयित्] पूर्ण करनेवाला (मा ४३) ।

पूरतिया स्त्री [पूरयन्तिका] राजा की एक परिपत्—परिवार (राज) ।

पूरग वि [पूरक] प्रति करनेवाला (कप्प, औप, रयण ७७) ।

पूरण न [पूरण] शूर्प, सूए, सिरकी का बना एक पात्र जिससे अन्न पछोरा जाता है (दे ६, ५६) ।

पूरण न [पूरण] १ प्रति, 'सदस्सापूरण' (सिरि ८६८) । २ पालन (भाधु ५) । ३ पु. यदुवश के राजा अन्नकवुण्णि का एक पुत्र (अत ३) । ४ एक गृह-पति का नाम (उवा) । ५ वि प्रति करनेवाला (राज) ।

पूरमाण देखो पूर = पूरय् ।

पूरय देखो पूरण, 'बत्तीस किर कवला आहारो कुच्छिपूरओ अणिमो' (पिंड ६४२) ।

पूरयत्त } देखो पूर = पूरय् ।
पूरिअव्व }

पूरिगा स्त्री [पूरिका] मोटा कपडा (राज) ।

पूरिम वि [पूरिम] पूरने से—भरने से होनेवाला (एगामा १, १३, परह २, ५, औप) ।

पूरिमा स्त्री [पूरिमा] गन्धार ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३) ।

पूरिय वि [पूरित] भरा हुआ (गवड, सण, भवि) ।

पूरी स्त्री [पूरी] तन्तुवाय का एक उपकरण (दे ६ ५६) ।

पूरंत देखो पूर = पूरय् ।

पूरोट्टी स्त्री [दे] अन्नकर, कसवार, कूडा (दे ६, ५७) ।

पूळ पुन [पूळ] पूला, धास की मँटिया (उप ३२० टी, कुम २१५) ।

पूळ } देखो पूअळ (कस, दे ६, ११७,
पूवळ } निवृ १) ।

पूळिआ } देखो पूअलिया (वृह १, निवृ
पूविगा } १६) ।

पूस अक [पुष्] पुष्ट होना । पूसइ (हि ४, २३६, प्राक्क ६८) ।

पूस देखो पुस्स = पुष्प (एगामा १, ८, हे १, ४३) । 'गिरि पु [गिरि] एक जैन मुनि (कप्प) । 'फली स्त्री [फली] बली-विशेष (पएण १) । 'माण, 'माणग पुं [माण, 'मानव] मागध, मज्जल पाठक, 'वडमाण-पसमाणएणियणोहि' (कप्प, औप) । 'माणग पु [मानक] ज्योतिर्वेदान-विशेष, ग्राहवि-हायक देव-विशेष (ठा २, ३) । 'माणय देखो 'माण (औप) । 'मित्त पु [मित्त] १ स्वनाम-असिद्ध जैन मुनि-अथ—१ धरं, पुष्पमित्त, २ वक्कपुष्पमित्त, ३ दुवन्निफ ङ पुष्पमित्त, जो आर्यं रसितसूरि के [माह १५६ (विसे २५१०, २२८६) । २ एकवक्क, दु (विचार ४६३) । 'मित्तिय न [ति] १ जैन मुनि-कुल (कप्प) ।

व

व पुं [व] श्रोष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वणुं-विशेष (प्राप) ।

वअर (शौ) न [वदर] १ फल-विशेष, बेर ।
२ कपास का बीज (प्राक्क ८३) ।

वइट्ट (अप) वि [उपविष्ट] बैठा हुआ (हे ४, ४४४, भवि) ।

वइल्ल पु [दे] बैल, बरघ, वृषभ (दे ६, ६१, गा २३८, प्राक्क ३८, हे २, १७४, धर्मवि ३, श्रावक २५८ टी, श्रु १५३, प्रासू ५५, कुप्र २७६, ती १५, वै ६, कप्पु) ।

वइस (अप) अक [उप + विशा] बैठना, गुजराती में 'वैसतु' । वइसइ (भवि) ।

वइसणय (अप) न [उपवेशनक] आसन (ती ७) ।

वइसार (अप) सक [उप + वेशय] बैठाना । वइसारइ (भवि) ।

वइस्स देखो वइस्स (पि ३००) ।

वईस (अप) देखो वइस । वईसइ (भवि) ।

वईस (अप) न [उपवेश] बैठ, बैठन, बैठना, 'तोवि गोड्डा कराविआ मुद्धए उट्टु-वईस' (हे ४, ४२३) ।

वउणी स्त्री [दे] कर्पासी, कर्पास-वल्ली (दे ३, ५७) ।

वउल पु [वकुल] १ वृक्ष-विशेष, मौलसरी का पेड़ (सम १५२, पात्र, णाया १, ६) ।
२ वकुल का पुष्प (से १, ५६) । °सिरी स्त्री [°श्री] १ वकुल का पेड़ । २ वकुल का पुष्प (श्रा १२) ।

वउस पु [वकुशा] १ अनायं देश विशेष ।
२ पुत्री उस देश का निवासी (परह १, १—पत्र १४) । स्त्री. °सी (णायया १, १—पत्र ३७) । ३ वि, शबल, चितकवरा । ४ मलिन चरित्रवाला, शरीर के उपकरण ओर विभूषा आदि से सयम को मलिन करनेवाला (ठा ३, २, ५, ३, सुख ६, १), स्त्री. 'तए ण सा सूमालिया अज्जा सरीरवउसा जाया यानि होत्या' (णायया १, १६) । ४ पुन मलिन सयम, शिथिल चारित्र-विशेष (सुख ६, १) ।

वउहारी स्त्री [दे] बुहारी, समार्जनी, भाडू (दे ६, ६७) ।

बंग पु [बङ्ग] १ भगवान् आदिनाथ के एक पुत्र का नाम (ती १४) । २ देश-विशेष, बंगाल देश (उप ७६५, ती १४) । ३ बंग देश का राजा (पिंग) ।

बगल (अप) पु [बङ्ग] बंग देश का राजा (पिंग) ।

बंगाल पु [बङ्गाल] बंगाल देश, 'बंगालदेम-वइणो तेणं तुह ससुरयस्स दिन्ना ह' (सुपा ३७७) ।

बम् देखो बम् (पि २६६) ।

बंदि पुं [दे] देखो बदि = बन्दिन् (षड्) ।

वद न [दे] कैदी, कारा-बद्ध मनुष्य, 'बंदपि किपि' (स ४२१), 'बदाइ गिन्हइ कयावि', छलेण गिन्हति वदाइ', 'बदाए मोयावणए' (धर्मवि ३२), 'एणत्थबदपगहियपहियकीरत-करणवन्नसरा' (धर्मवि ५२) । °गह पु [°ग्रह] कैदी रूप से पकडना, 'परदोहवट्ट-वाडणबदगहखत्तखएणपमुहाइ' (कुप्र ११३) ।

वदण न [दे] कैदी (नदीट्ठिप० वैनयि की बुद्धि मे १३ वॉ कथानक) ।

बदि स्त्री [बन्दि] देखो बदी (हे १, १४२, २, १७६) ।

बंदि } पुं [बन्दिन्] स्तुति-पाठक, मगल-
बदिण } पाठक, मागध, 'मगलपाढयमागह-
चारणवेआलिआ वदी' (पात्र, उप ७२८ टी, धर्मवि ३०), 'उहामसद्वददिणवद्वसमुग्घुट्ट-
नामाइ' (स ५७६) ।

बदिर न [दे] समुद्र-वारिण्य प्रधान नगर, वदर (सिरि ४३३) ।

वदी स्त्री [बन्दी] १ हठ-हूत स्त्री, वंदि (दे २, ८४, गउड १०५, ८४३) । २ कैद किया हुआ मनुष्य (गउड ४२६, गा ११८) ।

वदीकय वि [बन्दीकृत] कैद किया हुआ, बांध कर आनीत (गउड) ।

वदुरा स्त्री [बन्दुरा] अश्व-शाला, 'गच्छ निरुवेहि वदुराओ, भूसेहि तुरए' (स ७२५) ।

बध सक [बन्धु] १ बाँधना, नियन्त्रण करना । २ कर्मों का जीव-प्रदेशों के साथ संयोग करना । बंधइ (भग, महा, उव, हे १, १८७) । भूका. वधिसु (पि ५१६) । कर्म. बधिज्झइ, वज्झइ (हे ४, २४७), भवि. बंधिहिइ, वज्झिहिइ (हे ४, २४७) । वक्क वर्धत, बधमाण (कम्म २, ८, परए २२) । सक. वंधइत्ता, वधिउ, वधिऊण, वधिऊणं, वधित्ता, वधित्तु (भग, पि ५१३, ५८५, ५८२) । हेक्क. वधेउ (हे १, १८१) । क्क वंधियव्व (पंच १, ३) । कवक्क वज्झत, बद्धमाण (सुपा १६८, कम्म १, ३५, औप) ।

बध पु [दे] भृत्य, नौकर (दे ६, ८८) ।

बध पुं [बन्ध] १ कर्म-पुद्गलो का जीव-प्रदेशों के साथ दूध-पानी की तरह मिलना, जीव-कर्म-संयोग (आचा, कम्म १, १५, ३२) । २ बन्धन, नियन्त्रण, सयमन (श्रा १०, प्रासू १५३) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) । °सामि वि [°स्वामिन्] कर्म-बन्ध करने-वाला (कम्म ३, १, २४) ।

बधई स्त्री [बन्धकी] पुंश्चली, असती स्त्री (नाट—मालती १०६) ।

बधग वि [बन्धक] १ बाँधनेवाला । २ कर्म-बन्ध करनेवाला, आत्म-प्रदेश के साथ कर्म-पुद्गलो का संयोग करनेवाला (पंच ५, ८४, श्रावक ३०६, ३०७, पचा १६, ४०, कम्म ६, ६) ।

बधण न [बन्धन] १ बाँधने का—संश्लेष का साधन, जिससे बाँधा जाय वह स्निग्ध-तादि गुण (भग ८, ६—पत्र ३६४) । २ जो बाँधा जाय वह । ३ कर्म, कर्म-पुद्गल । ४ कर्म-बन्ध का कारण (सूअ १, १, १, १) । ५ सयमन, नियन्त्रण (प्रासू ३) । ६ नियन्त्रण का साधन, रज्जु आदि (उव) । ७ कर्म-विशेष, जिस कर्म के उदय से पूर्व-गृहीत कर्म-पुद्गलो के साथ गृह्यमाण कर्म-पुद्गलो का आपस में सम्बन्ध हो वह कर्म (कम्म १, २४, ३१, ३५, ३६, ३७) ।

पेच्छय वि [दे] जो देखे उसी को चाहनेवाला, दृष्ट-मात्र का अभिलाषी (दे ६, ५८)।

पेच्छा स्त्री [प्रेक्षा] प्रेक्षणक, तमाशा, खेल, नाटक, पेच्छाखणो सिरणविलोभराण जहा सुचोक्खोवि न किंचिदेव' (उपप ३७, सुर १३, ३७, औप)। देखो पेक्खा। घर न [गृह] देखो हर (ठा ४, २)। मडव पुं [मण्डप] नाटक-गृह, खेल आदि में प्रेक्षको के बैठने का स्थान (पव २६६)। हर न [गृह] नाटक-गृह, खेल-तमाशा का स्थान (पडम ८०, ५)।

पेच्छि वि [प्रेक्षिन्] प्रेक्षक, द्रष्टा (चिदम १०६, गा २१४)।

पेच्छिअ वि [प्रेक्षित] १ निरीक्षित, अवलोकित (कुमा)। २ न. निरीक्षण, अवलोकन (सुर १२, १८३, गा २२५)।

पेच्छिर वि [प्रेक्षित्] निरीक्षक, द्रष्टा (गा १७४, ३७१)।

पेज्ज देखो पा = पा।

पेज्ज पुन [प्रेमन्] प्रेम अनुराग (सूअ २, ५, २२, आचा, भग ठा १, वेइय ६३४)।

दसि वि [दशिन्] अनुरागी (आचा)।

पेज्ज वि [प्रेयस्] अत्यन्त प्रिय (औप)।

पेज्ज वि [प्रेज्य] पूज्य, पूजनीय (राज)।

पेज्ज देखो पेर = प्र + ईर्य्।

पेज्जल न [दे] प्रमाण (दे ६, ५७)।

पेज्जलिअ वि [दे] सघटित (वड)।

पेज्जा देखो पेआ (ओघ १४६, हे १, २४८)।

पेज्जाल वि [दे] विपुल, विशाल (दे ६, ७)।

पेट } न [दे] पेट, उदर (पिंग, पव १)।

पेट्ट }

पेट्ट देखो पिट्ट = पिट्ट (सक्षि ३, प्राक ५, प्राप्र)।

पेट्ट देखो पेट्टय, 'नडपेट्टनिहा' (सलोष १८)।

पेट्टइअ पु [दे] धान्य आदि वेचनेवाला वणिक् (दे ६, ५६)।

पेट्टक } न [पेटक] समूह, ग्रुप, 'नडपेट्टक-पेट्टय' सनिहा जाण' (सवोष १५, सुपा ५४६, सिरि १६३, महा)।

पेट्टा स्त्री [पेटा] १ मञ्जूषा, पेट्टी (दे ५, ३८, महा)। २ पेट्टाकार चतुष्कोण गृह-पत्ति मे निक्षार्थ-अमण (उत्त ३०, १६)।

पेट्टाल पु [दे पेटाल] बडी मञ्जूषा, बडी पेटी (सुद्रा ११०)।

पेट्टावइ पु [पेटकपति] ग्रुप का नायक (सुपा ५४६)।

पेट्टिआ स्त्री [पेटिका] मञ्जूषा (सुद्रा २४०)।

पेट्टु स्त्री पु [दे] महिष, भैंसा (दे ६, ८०)।

पेट्टु स्त्री [दे] १ भित्ति, भीत। २ द्वार, दरवाजा। ३ महिषी, भैंस (दे ६, ८०)।

पेट्ट देखो पीठ = पीठ (हे १, १०६, कुमा), 'काळण पेट्ट टविया तत्थ एसा पडिमा' (कुप्र ११७)।

पेट्टाल वि [दे] १ विपुल (दे ६, ७, गडड)।

२ वतुल, गोलाकार (दे ६, ७, गडड, पाप्र)।

पेट्टाल वि [पीठवत्] पीठ-युक्त (गडड)।

पेट्टाल पु [पेट्टाल] १ भारत वर्ष का आठवां भावी जिनदेव, 'पेट्टाल अकुमयं आणदजिय नमसामि' (पव ४६)। २ ग्यारह ख पुष्यो मे दसवां (विचार ४७३)। ३ एक ग्राम, जहाँ भगवान् महावीर का निचरण हुआ था, 'पेट्टालग्गाममागओ भयव' (आवम)। ४ न एक उद्यान, 'सओ सामी दडभूमि गओ, तीसे बाहि पेट्टाल नाम उजाण' (आव १)। पुत्त पुं [पुत्त] १ भारतवर्ष का आठवां भावी जिन देव, 'उदए पेट्टालपुत्ते य' (सम १५३)। २ भगवान् पार्श्वनाथ के सतान मे उत्पन्न एक जैन मुनि, 'अहे ए उदए पेट्टालपुत्ते भगव पासावच्चिजे नियठे मेयज्जे गोत्तेण' (सूअ २, ७, ५, ८, ९)। ३ भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर विमान मे उत्पन्न एक जैन मुनि (अनु २)।

पेट्टिया देखो पीडिया, 'चत्तारि मणिपीडियाओ' (ठा ४, २—पत्र २३०)। २ ग्रन्थ की सूचिका, प्रस्तावना (वसु)।

पेट्टी देखो पीठी (वीव ३)।

पेट्टी स्त्री [प्रेणी] हरिणी का एक भेद (परह १, ४—पत्र ६८)।

पेट्टड वि [दे] लुप्त-दण्डक, ग्रुप में जो हार गया हो वह, जिसका दाव चला गया हो वह (पुच्छ ४६)।

पेम पुन [प्रेसच] प्रेम, अनुराग, प्रीति, स्नेह (उवा, औप, स ५, सुपा २०४, रयण ४२)।

पेमालुअ वि [प्रेमिन्] प्रेमी, अनुरागी (उप ६८६ टी)।

पेम्म देखो पेम (हे २, ६८, ३, २५, कुमा, गा १२६, प्रासु ११६)।

पेम्मा स्त्री [प्रेमा] छन्द-विशेष (पिंग)।

पेया स्त्री [पिया] वाद्य विशेष, बडो काहुवा (राय ४५)।

पेर सक [प्र + ईर्य्] १ पठाना, मेजना, प्रेरण करना। २ घक्का लगाना, आघात करना। ३ आदेश करना। ४ किसी कार्य में जोड़ना—लगाना। ५ पूर्वपक्ष करना, प्रत्य करना, सिद्धान्त का विरोध करना। ६ मिराना। पेरइ (धर्मस ५६०, भवि)। वक्क पेरत (कुप्र ७०, पिंग)। कक्क पेरिज्जत (सुपा २५१, महा)। क्क पेज्ज (राज)।

पेरत देखो पज्जत (हे १, ५८, ६३, प्राप्र, औप, गडड)। चक्कवाल न [चक्कवाल] बाह्य परिधि, बाहर का घेराव (परह १, ३)। वक्क न [वक्कस्] मण्डप, तुण्णदि निर्मित गृह (राज)।

पेरग वि [प्रेरक] प्रेरणा करनेवाला, पूर्वपक्षी (धर्मस ५८७)।

पेरण न [दे] १ ऊर्ध्व स्थान (दे ६, ५६)। २ खेल, तमाशा (स ७२३, ७२५)।

पेरण न [प्रेरण] प्रेरणा (कुप्र ७०)।

पेरणा स्त्री [प्रेरणा] ऊपर देखो (सम्म १५७)।

पेरिअ वि [प्रेरित] जिसको प्रेरणा की हो वह (दे ८, १२, भवि)।

पेरिज्ज न [दे] साहाय्य, सहायता, मदद (दे ६, ५८)।

पेरिज्जत देखो पेर = प्र + ईर्य्।

पेरुल्लि वि [दे] पिरडीकृत, पिरडाकार हि (दे ६, ५४)।

पेल्लन वि [पेल्लव] १ कोयल, सुकुमार, (पाप्र, स २, २७, अभि २६, औप)। पतला, कुरा। ३ सुकम, लघु (राया १, पत्र २५, हे १, २३८)।

पेलु स्त्री [पेल्ल] मूणी, खई की पहल, 'क ताव पेलु' (पिडमा ३५)। फए [करण] मूणी—मूनी बनाने का उपाय याताका आदि (वित्त ३३०५)।

वर्ष, 'वभएणकज्जेसु सज्जो' (सम्मत्त १४०, कप्प, औप, पि २५०) ।

वंभहीविग वि [ब्रह्मद्वीपिक] ब्रह्मदीपिका-शाखा मे उत्पन्न (एदि ५१) ।

वंभहीविगमि श्री [ब्रह्मद्वीपिका] एक जैन-मुनि-शाखा (एदि ५१) ।

वंभलिज्ज न [ब्रह्मलीय] एक जैन मुनि कुल (कप्प) ।

वंभहर न [दे] कमल, पद्म (दे ६, ११) ।

वंभाण देखो वंभ (पउम ५, १२२) । 'गच्छ पु [गच्छ] एक जैन-मुनि गच्छ (ती २८) ।

वंभि^० } छो [ब्राह्मी] १ भगवान् ऋषभदेव वमी } की एक पुत्री (कप्प, पउम ५, १२०, ठा ५, २, सम १०) । २ लिपि-विशेष (सम ३५, भग) । ३ कल्प-विशेष (सुपा ३२४) ।

४ सरस्वती देवी (सिरि ७६४) ।

वंभुत्तर पु [ब्रह्मोत्तर] एक विमानावास, देव-विमान-विशेष (वेवेन् १३४) । 'वडिसक न [वतसक] एक देव-विमान (सम ११) ।

वहि पु [बहिन्] मयूर, मोर (उत्तर २६) ।

वहिण (अप) ऊपर देखो (पि ४०६) ।

वक देखो वय (पएह १, १—पत्र ८) ।

वक्कर न [दे वर्कर] परिहास (दे ६, ८६, कुप्र १६७, कप्प) ।

वक्कस न [दे] अन्न विशेष, 'वक्कस' मुद्रमाषा-दिनपिकानिष्पन्नमन् (सुज ८, १२, उत ८, १२) ।

वग देखो वय (दे २, ६, कुप्र ६६) ।

वगदादि पु [वगदादि] देश विशेष, बगदाद देश, 'बगदादिविसयवमुहाहिवस्स खलीपना-मधेयस्स' (हम्मरी ३४) ।

वगी छो [वकी] बगुली, बगुले की मादा (विपा १, ३, मोह ३७) ।

वग्गड पु [दे] देश विशेष (ती १५) ।

वज्जम वि [वाह्य] बाहर का, बहिरङ्ग (पएह १, ३, प्रासू १७२) । 'ओ अ [तस्] वाह्य से बहिरंग से, 'कि ते जुज्जेण वज्जमो' (आचा) ।

वज्जम न [वन्ध] बन्धन, बांधने का वायुपा आदि सागन, 'अह त पवेज वज्जम, अहे वज्जन्स वा वए' (सुप्र १, १, २, ८) ।

वज्जम वि [वद्ध] १ बन्धनाकार व्यवस्थित, 'अह त पवेज्ज वज्जम' (सुप्र १, १, २, ८) । २ बँधा हुआ (प्रति १५) ।

वज्जमत } देखो वन्ध = बन्ध ।
वज्जममाण }

वठर पु [वठर] मूखं छात्र (कुप्र १६) ।

वड (अप) वि [दे] बडा, महान् (पिंग) । देखो वड्डु ।

वडवड अक [वि + लप्] विलाप करना, बडबडाना । वडवडइ (पड्) ।

वडहिला छो [दे] धुरा के मूल मे दी जाती कील, कीलक-विशेष (सट्ठि ११६) ।

वडिस देखो बलिस (हे १, २०२) ।

वड्डु } पु [वट्टु, क] लडका, छोकाडा (उप वड्डुअ } ७१३, सुपा २००) ।

वड्डुवास [दे] देखो वड्डुवास (दे ७, ४७) ।

वत्तीस } (अप) देखो वत्तीस (पिंग) ।
वत्तिस }

वत्तीस छीन [द्वात्रिंशत्] १ सख्या-विशेष, वत्तीस, ३२ । २ जिनकी सख्या वत्तीस हो वे, 'वत्तीस जोगसगहा पत्तत्ता' (सम ५७, औप, उव, पिंग) । छो 'सा (सम ५७) ।

वत्तीसइ छो ऊपर देखो (सम ५७) । वद्धय न [वद्धक] १ वत्तीस प्रकार रचनाओ से युक्त । २ वत्तीस पात्रो से निवद्ध (नाटक), 'वत्तीसइबद्धएहि नाडएहि' (एयाया १, १—पत्र ३६, विपा २, १ टी—पत्र १०४) । 'विह वि [विध] वत्तीस प्रकार का (सम ५७) ।

वत्तीसइम वि [द्वात्रिंशत्तम] १ वत्तीसवाँ, ३२ वाँ (पउम ३२, ६७, पएण ३२) । २ न पनरह दिनों का लगातार उपवास (एयाया १, १) ।

वत्तीसा देखो वत्तीस ।

वत्तीसिया छो [द्वात्रिंशिका] १ वत्तीस पद्यों का निबन्ध—ग्रन्थ (सम्मत्त १४४) । २ एक प्रकार का नाप (अणु) ।

वद्ध वि [वद्ध] १ बँधा हुआ, नियन्त्रित, 'वद्धं सदाणिम निअल्लिअ च' (पाप्र) । २ सञ्चित, सयुक्त (भग, पाप्र) । ३ निवद्ध, रचित (आवम) । 'फल, फल पुं [फल] १ करण का पेट (हे २, ६७) । २ वि

फल-युक्त, फल-सपन्न (एयाया १, ७—पत्र ११६) ।

वद्धग पु [वद्धक] तुरा-वाद्य विशेष (राय ४६) ।

वद्धय पु [दे] कान का एक आभूषण (दे ६, ८६) ।

वद्धेड्डग } देखो वद्ध (अणु, महा) ।
वद्धेड्डय }

वट्प पु [दे] १ सुभट, योद्धा (दे ६, ८८) । २ वाप, पिता (दे ६, ८८, वस ७, १८, स ५८१, उप ३२० टी, सुर १, २२१, कुप्र ४३, जय, भवि, पिंग) ।

वट्पहट्टि पु [वट्पमट्टि] एक सुविरयात जैन आचार्य (विचार ५३३, ती ७) ।

वट्पीह पु [दे] पपीहा, चातक पक्षी (दे ६, ६०, स ६८६, पाप्र, हे ४, ३८३) ।

वट्पुड वि [दे] वेचारा, दीन, अनुकम्पनीय गुजराती मे 'वापड्डु' (हे ४, ३८७, पिंग) ।

वट्प पुन [वाष्प] १ भाफ, ऊष्मा, 'वष्पो' (हे २, ७०, पड्), 'वष्प' (पाक्र २३, विसे १५३५) । २ नेत्र-जल, अश्रु, 'वष्प वाहो य नयणजल' (पाप्र), 'वष्पपज्जाउललोअणार्हि' (स ५६१, स्वप्न ८५) ।

वाष्पाउल वि [दे वाष्पाकुल] अतिशय उष्ण (दे ६, ६२) ।

वव्वर पु [वव्वर] १ अनायं देश-विशेष (पउम ६८, ६५) । २ वि वव्वर देश का निवासी (पएह १, १, पउम, ६६, ५५) । 'कूल न [कूल] वव्वर देश का किनारा (सिरि ४३०) ।

वव्वरी छो [दे] केश-रचना (दे ६, ६०) ।

वव्वरी छो [वव्वरी] वव्वर देश की छो (एयाया १, १, औप, इक) ।

वव्वूल पु [वव्वूल] वुञ्ज-विशेष, वव्वूल का पेट (उप ८३३ टी, महा) ।

वव्वभ पु [दे] वर्ध, चर्म, चमडे की रज्जु, 'वव्वो वव्वे' (दे ६, ८८), 'वव्वो वव्वो = (? वव्वो वव्वो)' (पाप्र) ।

वव्वभागम वि [वव्वभागम] बहु-श्रुत, शास्त्रों का अज्ञात जानकार (कस) ।

पोअ पुं [दे] १ अय वृक्ष, घाय, वीं का पेट ।
२ छोटा साँप (दे ६, ८१) ।

पोअइआ व्री [दे] निद्राकारी लता, लता-
विशेष (दे ६, ६३, पात्र) ।

पोअड वि [दे] १ भय-रहित, निडर । २
परह, नामर्द (दे ६, ६१) ।

पोअत पुं [दे] शपथ, सौगन (दे ६, ६२) ।
पोअण न [प्रवयन, प्रोतन] पिरोना, गुम्फन,
शूनता (श्रावम) ।

पोअणपुर न [पोतनपुर] नगर-विशेष (सुपा
५०६, अवि) ।

पोअणा व्री [प्रवयना, प्रोतना] पिरोना
(उप ३५६) ।

पोअय वि [पोतज] पोत से उत्पन्न होनेवाला
प्राणी—हस्ती आदि (ठा ३, १) ।

पोअय पुं [पोतक] देखो पोअ = पोत (उवा,
श्रीप) ।

पोअलय पु [दे] १ आश्विन मास का एक
उत्सव, जिसमें पत्नी के हाथ से लेकर पति
अपूप को खाता है । २ एक प्रकार का
अपूप—खाद्य-विशेष, पूआ । ३ बाल बचन्त
(दे ६, ८१) ।

पोआई व्री [पोताकी] १ शकुनि को उत्पन्न
करनेवाली विद्या-विशेष २ शकुनिका, पक्षि-
विशेष (विसे २४५३) ।

पोआउय वि [पोतायुज, पोतज] देखो
पोअय (पञ्च १०२, १७) ।

पोआय पुं [दे] ग्राम-प्रधान, गाँव का मुखिया
(दे ६, ६०) ।

पोआरु पु [दे] वृषभ, बलीवर्द (दे ६, ६२) ।

पोआल [दे पोतक] वच्चा, शिशु, बालक
(श्रीष ४४७) ।

पोअ पु [दे] १ हलवाई, मिठाई बेचनेवाला ।
गाय (दे ६, ६३) । ३ निमग्न, डूबा
श्रा (श्रीय १३६) । ४ स्पन्दित (बृह १) ।

पो वि [प्रोत] पिरोया हुआ (दे ७, ४४,
पु १०६, पात्र) ।

पो देलो पोइअ = प्रोत (श्रीष ५३६)

पो [दे] निद्राकारी लता, बली-
वर्द (दे ६, ६३, परण १—

पोउआ व्री [दे] करीष—सूखा गोबर (गोडैठा)
का अग्नि (दे ६, ६१) ।

पोंग पु [दे] पाक, पकना (स १८०) ।

पोंगिल वि [दे] पका हुआ, परिपक्व, परि-
पाक-युक्त, कच्छी भाषा में 'पोगेल',
'अन्नेवि सइमहियलनिसीय-

रुम्पन्किणियपोगिल्ला ।
मलियाजरकण्डोच्चइय-
विग्गहा कहवि हिडति ॥'
(स १८०) ।

पोंड न [दे] फूल, पुष्प, 'एग सालियपोड
वडो आमिलयो होइ' (उत्तन ३) ।

पोंड देखो पुड । 'वद्धण न [वर्धन] नगर-
विशेष (महा) । 'वद्धणिया व्री [वर्धनिका]
जैन मुनि-गण की एक शाखा (कण्प) ।

पोंड } पु [दे] युष का अधिपति (दे ६,
पोंडय } ६०) । २ फल (परह १, ४—पत्र
७८) । ३ अविश्रित अवस्थावाला कमल
(विसे १४२५) । ४ कपास का सूता, 'द्वव
तु पोडयादी भावे सुत्तमिह सूयग नाए'
(सूअनि ३) ।

पोंडरिगिणी देखो पुडरिगिणी (ठा २, ३) ।

पोंडरिय देखो पुडरीअ = पुएडरीक (स
४३६) ।

पोंडरी व्री [पौण्ड्री, पुण्डरीका] जम्बूद्वीप के
मेरु के उत्तर चक्र पर रहनेवाली एक
दिक्रुमारी देवी (ठा ८) ।

पोंडरीअ देखो पुंडरीअ = पुएडरीक (श्रीष,
एगाया १, ५, १६, सम ३३, देवेन्द्र ३१८,
सूअनि १४६) ।

पोंडरीअ } न [पौण्डरीक] १ गणित-
पोंडरीग } विशेष, रज्जु-गणित (सूअनि
१५४) । २ देखो पुडरीअ = पौएडरीक (सूअ
२, १, १, सूअनि १४६, १५१) ।

पोक सक [व्या + ह, पत् + कृ] पुका-
रना, आह्वान करना । पोक्कइ (हे ४,
७६) ।

पोक वि [दे] आगे स्थूल और उन्नत तथा
बीच में निम्न (नासिका), 'पोक्कनासे' (उत्त
१२, ६) ।

पोक्कण पु [पोक्कण] १ अनार्य देश-विशेष ।
२ उस देश में बसनेवाली श्लेच्छ जाति (परह
१, १) ।

पोक्कण न [व्याहरण, पूरकरण] १ पुक्कर,
आह्वान । २ वि, पुकारनेवाला (कुमा) ।

पोक्कर देखो पुक्कर : पोक्करति (महा) । वड,
पोक्करत (सुपा ३८०) ।

पोक्करिय वि [पूक्कत] १ पुकारा हुआ (सुर
६, १६४) । २ न पुकार (दस ३) ।

पोक्कार देखो पुक्कार = पूक्कार (उप ५१८५) ।

पोक्किअ देखो पोक्करिय (उप १०३१ टी) ।

पोक्खर न [पुक्कर] १ जल, पानी । २
पत्र, कमल । ३ पत्र-कोष । ४ एक तीर्थ,
अजमेर-नगर के पास का एक जलाशय—
तीर्थ । ५ हाथी की सूँठ का अग्र भाग । ६
वाद्य-भाण्ड । ७ आपण, दूकान । ८ अस्ति-
कोष, तलवार की म्यान । ९ भुक्त, भूँह ।

१० कुष्ठ रोग की घोषधि । ११ द्वीप-विशेष ।
१२ युद्ध, लड़ाई । १३ शर, बाण । १४
आकाश, 'पोक्खर' (हे १, ११६, २, ८,
सखि ४) । १५ पु, नाग-विशेष । १६ रोग-
विशेष । १७ सारस पक्षी । १८ एक राजा
का नाम । १९ पर्वत विशेष । २० वरुण
पुत्र, 'पोक्खरो' (प्राप्र) । देखो पुक्कर ।

पोक्खर वि [पौक्कर] १ पुक्कर सम्बन्धी ।
३ पत्राकार रचनावाला, 'पोक्खर पवहए'
(चार ७०) ।

पोक्खरिणी व्री [पुक्करिणी] १ जलाशय-
विशेष, बर्तुल वापी (एगाया १, १—पत्र
६३) । २ पत्थिनी, कमलिनी, पत्र-लता,
'जलेण वा पोक्खरिणीपलास' (उत्त ३२
६०) । ३ वापी (कुमा) । ४ पत्र-समूह । ५
पुक्कर मूल (हे २, ४) । ६ चौकीना जला
शय, पोक्खरी, वापी (परह १, १, हे २, ४)

पोक्खरउ देखो पुक्खल (परण १—पत्र ३५
आचा २, १, ८, ११) ।

पोक्खलच्छिद्रलय } देखो पुक्खलच्छि
पोक्खलच्छिद्रलय } भय (परण १—पत्र
३५, राज) ।

पोक्खलि पुन [पुक्कलिन्] एक जैन उप
सक, जिसका दूसरा नाम शतक था (राज)

पोग्गर } पुन [पुद्गल] १ ह्यारि विशि
पोग्गल } द्रव्य, सूतं द्रव्य, रूपवाला पदा
'पोग्गला' (अय ८, १, ठा २, ८, ४,

बलामोलि देखो बलामोडि (से १०, ६४) ।

बलाया स्त्री [बलाका] वक-विशेष बिस-
कण्ठका, बगुले की एक जाति (हे १, ६७,
उप १०३१ टी) ।

बलाहग पु [बलाहक] भेष, जोमूत, 'गलिय-
जलबलाहगपडुर' (बसु) ।

बलाहगा देखो बलाहया (ठा ८) ।

बलाहय देखो बलाहग (गाया १, ५, कप्प,
पात्र) ।

बलाहया स्त्री [बलाहका] १ वक-विशेष,
बलाका (उप २६४) । २ देवी-विशेष, अनेक
दिवकुमारी देवियों का नाम (इक—पत्र
२३१, २३४) ।

बलि पु [बलि] १ असुरकुमारो का उत्तर
विशा का इन्द्र (ठा २, ३, १०, इक) । २
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (गा ४०६) । ३
सातवा प्रतिवासुदेव (पउम ५, १५६) । ४
एक दानव, दैत्य-विशेष (कुमा) । ५ पुत्री
उपहार, भेंट (पिंड १६५, दे १, ६६) । ६
पूजोपहार, देवता को धरा जाता नैवेद्य,
'सुरहिनिलेवणवरकुसुमदामबलिदीवणोहि च'
(पव १ टी), 'वदणपूयणवल्लोयणोसु' (वेइय
५२, पव १३३, सुर ३, ७८, कुप्र १७४) ।
७ भूत आदि को दिया जाता भोग, बलिदान,
'भूयगलिव्व' (वे ४६) । ८ पूजा, अर्चा,
सपर्या । ९ राज-ग्राह्य भाग । १० चामर का
दण्ड । ११ उपप्लव (हे १, ३५) । १२
छन्द-विशेष (पिंग) । 'उट्ट पु [पुष्ट] काक,
कौआ (पात्र) । 'कम्म न [मर्मन्] १
पूजन, पूजा की क्रिया । २ देवता को उप-
हार—नैवेद्य धरने की क्रिया (भग, सूध
२, २, ५५, गाया १, १, ८, कप्प, औप) ।
'चचा स्त्री [चच्चा] बलीन्द्र की राजधानी
(गाया २, इक) । 'मुह पु [मुख] बन्दर,
कपि (पात्र) । 'यम्म देखो 'कम्म (पउम
३७, ४६) ।

बलि वि [बलिन] १ बलवान्, बलिष्ठ (सुपा
४५१, कुप्र २७७) । २ पु रामचन्द्र का
एक सुभट (पउम ५६, ३८) ।

बलिअ वि [द] १ पीन, मासल, स्थूल, मोटा
(दे ६, ८८, उप १४२ टी, बृह ३) । २

क्रि. गाढ, बाढ, अतिशय, अत्यर्थ, 'गाढ
बाढ बलिअ धरिअग्ग दढमइसएण अचत्थ'
(पात्र, गाया १, १—पत्र ६४, भग ६,
३३) ।

बलिअ वि [बलिन, बलिक] १ बलवान्,
सबल, पराक्रमी, 'कत्थावि जीवो बलिअो
कत्थवि कम्माइ हति बलियाइ' (प्रासू १२३),
'एम अम्ह ताओ वलियदाइयपेल्लिओ इम
विसम पल्लि समस्सिओ' (महा, पउम ४८,
११७, सुपा २७५, औप) । २ प्राणवाला
(ठा ४, ३—पत्र २४६) ।

बलिअ वि [बलित] जिसको बल उत्पन्न
हुआ हो, सबल (कुप्र २७७) । २ पु. छन्द-
विशेष (पिंग) ।

बलिअरु पु [बलिताङ्क] छन्द-विशेष (पिंग) ।

बलिआ स्त्री [दे बलिका] सूप, सूप, अन्न
को तुषादि-रहित करने का एक उपकरण
(प्रावम) ।

बलिङ्क वि [बलिष्ठ] बलवान्, सबल (प्रासू
१५४) ।

बलिइ पु [दे बलीवर्द] बलध, वृषभ, 'दो
सारबलिहावि हु' (सुपा २३८) ।

बलिमड्डा स्त्री [दे] बलात्कार, 'अन्नह बलि-
मड्डाए गहिउमणो सोम । एकलिय' (उप
७२८ टी) ।

बलिवद् देखो बलीवद् (पउम ३३, ११६) ।

बलिस न [बडिश] मछली पकडने का कांटा
(हे १, २०२) ।

बलिस्सइ पु [बलिस्सह] स्वनाम-ख्यात एक
जैन मुनि, आर्य महागिरि का एक शिष्य
(कप्प) ।

बलीअ वि [बलीयस्] अधिक बलवाला,
बलिष्ठ (अभि १०१) ।

बलीवद् पु [बलीवर्द] बैल, वृषभ (विपा
१, २) ।

बलुल्लड (अप) देखो बल=बल (हे ४, ४३०) ।

बले अ इन अर्थों का सूचक अण्वय—१
निश्चय, निर्णय । २ निर्धारण (हे २, १८५
कुमा) ।

बल्ल न [बाल्य] बालत्व, बालकपन, शिशुता
(कुमा ३, ३५) । देखो बाल = बाल्य ।

बव सक [बू] बोलना, कहना । बवइ, बवए
(षड्) । देखो बुव, वू ।

बव न [बव] ज्योतिष-शास्त्र-प्रसिद्ध एक करण
(विसे ३३४८, सूअनि ११, सुपा १०८) ।

बव्वाड पु [दे] दक्षिण इस्त (दे ६, ८६) ।

बहड वि [बृहन्] बडा, महान् । 'इच्च न
[दिट्ठ] नगर विशेष (ती ३५) ।

बहत्तरी देखो बाहत्तरि (पव २०) ।

बहपपइ } देखो बहस्सइ (हे १, १३८, २,
बहपफइ } ६६, १३७, पड्, कुमा, सम्मत
१३७) ।

बहरिय देखो वहिरिय, 'तालरववहरियदियतर'
(महा) ।

बहल न [दे] पक, कदम, कादा (दे ६,
८६) । सुरा स्त्री [सुरा] पकवाली मदिरा
(दे ५, २) ।

बहल वि [बहल] १ निविड, सान्द्र,
निरतर, गाढ (गउड हे २, १७७) । २
स्थूल, मोटा (ठा ४, २, गउड) । ३ पुष्कल,
अत्यन्त (कप्प) ।

बहलिम पुत्री [बहलता] १ स्थूलता, मोटाई ।
२ सातत्य, निरतरता वजा ५२, गा ७५५) ।

बहली स्त्री [बहली] १ देश-विशेष, भारतवर्ष
का एक उत्तरीय देश, 'तकखसिलाइ पुरीए
बहलीविसयावयसभूयाए' (कुप्र २१२) । २
बहली देश की स्त्री (गाया १, १—पत्र
३७, औप, इक) ।

बहलीय वि [बहलीक] देश-विशेष मे—
बहली देश मे रहनेवाला (परह १, १—
पत्र १४) ।

बहव देखो बहु, 'काले समइक्कते अन्नबहवे'
(पउम ४१, ३६), 'सोहगकप्पतरुवरपमुहतवे
सा कुणइ बहवे' (सम्मत २१७), 'जायति
बहववेरगपल्लवुल्लासियो भक्ति' (हि ५) ।

बहरसइ पु [बृहस्पति] १ ज्योतिष्क देव-
विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७७,
सुज २०—पत्र २६४) । २ सुराचार्य, देव-
पुत्र (कुमा) । ३ पुष्य नक्षत्र का अधिष्ठाता
देव (सुज १०, ६२) । ४ राजनीति प्रणेता
एक ऋषि । ५ नास्तिक मत का प्रवर्तक एक
विद्वान् (हे २, १३७) । ६ एक ब्राह्मण,
पुरोहित-पुत्र । ७ विपाकसूत्र का एक अण्वयन

पोथिया ली [पुस्तिका] पोथी, पुस्तक, 'सरस्वद् व्व पोथियावलगमहत्या' (काल) ।
 पोपय पुंन [दे] हस्त-परिमर्षण, हाथ फिराना (उप पृ ३५३) ।
 पोफ्फल न [पूगफल] सुपारी (हे १, १७०, कुमा) ।
 पोफ्फली ली [पूगफली] सुपारी का पेड (हे १, १७०, कुमा) ।
 पोम देखो पउम, 'जहा पोम जले जाय' (उत्त २५, २७, सुख २५, २७, पउम ५३, ७६) ।
 पोमर न [दे] कुसुम्भ-रक्त वज्र (दे ६, ६३) ।
 पोमाड पु [दे पद्माट] पमाड, पमार, चक्रवड का पेड (स १४४) । देखो पउमाड ।
 पोमावई ली [पद्मावती] छन्द-विशेष (पिंग) ।
 पोमिणी देखो पउमिणी (सुपा ६४६, सम्मत १७१) ।
 पोम्म देखो पउम (हे १, ६१, १, २, ११२, गा ७५, कुमा, प्राङ्ग २८, कप्पू, पि १६६) ।
 पोम्मा देखो पउमा (प्राङ्ग २८, गा ४७१, पि १६६) ।
 पोम्ह देखो पम्ह = पकमन्; 'जह उ किर यालिगाए षणिय भिदुबुधपोम्हभरियाए' (धर्मस ६८०) ।
 पोर पु [पूतर] जल में होनेवाला शुद्ध जन्तु (हे १, १७०, कुमा) ।
 पोर वि [पौर] पुर मे—नगर मे उत्पन्न, नागरिक (प्राङ्ग ३५) ।
 पोर देखो पुर = पुरस् । 'कन्व न [कान्य] शीघ्रकविव्व (राज) ।
 पोर पुन [दे पर्वन्] ऋषि, गाँठ (डा ४, १, अरु) । 'बीय वि [बीज] पर्वन्-बीज से उगनेवाली वनस्पति, इन्धु आदि (डा ४, १) ।
 पोरग पु न [पर्वक] वनस्पति का एक भेद, पर्ववाली वनस्पति (पएण १—पत्र ३३) ।
 पोरच्छ पु [दे] दुर्जन, खल (दे ६, ६२ पात्र) ।
 पोरच्छिम देखो पुरच्छिम (सुपा ४१) ।
 पोरत्थ वि [दे] मत्सरी, ईर्ष्यालु, द्वेषी (पद) ।
 पोरय न [दे] क्षेत्र (दे ६, २६) ।

पोरव पुं [पौरव] राजा पुर की सतान (अभि ६५) ।
 पोखाड पुं [पौरवाट] एक जैन आनक-कुल (ती २) ।
 पोराण देखो पुराण (पएण २८, श्रौप, अग, हे ४, २८७, उव, गा ३४०) ।
 पोराण वि [पौराण] ? पुराण-सम्बन्धी (राय) । २ पुराण शास्त्र का ज्ञाता (राज) ।
 पोराणिय वि [पौराणिक] पुराण-शास्त्र-संबन्धी (स ३४४) ।
 पोरिस न [पौरुष] ? पुरुषत्व, पुरुषार्थ (प्रासू १७) । २ पराक्रम (कुमा) ।
 पोरिस वि [पौरुषेय] पुरुष-जन्य, पुरुष-प्रणीत (धर्मसं ८६२ टी) ।
 पोरिसिमडल न [पौरुषीमण्डल] एक जैन शास्त्र (एदि २०२) ।
 पोरिसिय देखो पोरिसीय, 'अत्याहमत्तारम-पोरिसियसि उदगसि अण्णाए सुयति' (याया १, १४—पत्र १६०) ।
 पोरिसी ली [पौरुषी] ? पुरुष शरीर-प्रमाण छाया । २ जो समय में पुरुष-परिमाण छाया हो वह काल, प्रहर (उवा, विपा २, १, आचा, कप्प, पव ४) । ३ प्रथम प्रहर तक भोजन आदि का त्याग, प्रत्याख्यान-विशेष, तप-विशेष (पव ४, सबोध ५७) ।
 पोरिसीय वि [पौरुषिक] पुरुष-प्रमाण, पुरुष-परिमित, 'कुभी महात्तहियपोरिसीया' (सुस १, ५, १, २४) ।
 पोरुस पुं [पुरुष] अत्यन्त बृद्ध पुरुष (सुस १, ७, १०) ।
 पोरुस देखो पोरिस (स २०४, उप ७२८ टी, महा) ।
 पोरेकच्च न [पौरुस्कृत्य] पुरस्कार, कला-पोरेगच्च } विशेष (श्रौप, राय, श्रौप १०७ टि) ।
 पोरेवच्च न [पौरुवृत्त्य] पुरोवत्तिल, अग्रेसरता (श्रौप, सम ८६, विपा १, १, कप्प) ।
 पोलड सक [प्रोत + लङ्घ्] विशेष उल्लघन करना । पोलडेइ (याया १, १—पत्र ६१) ।
 पोल्ला ली [दे] खेदित भूमि, कूट जमीन (दे ६, ६३) ।

पोलास न [पोलास] ? नगर-विशेष, पोलासपुर (उवा) । २ उद्यान-विशेष (राज) ।
 'पुर न [पुर] नगर-विशेष (उवा, अत) ।
 पोलासाड न [पोलाषाड] श्वेतविका नगरी का एक चैत्य (विसे २३५७) ।
 पोलिअ पु [दे] सौमिक, कसाई (दे ६, ६२) ।
 पोलिआ ली [दे, पौलिका] छाद्य-विशेष, पूरी (?), 'सुणमो इव पोलियासत्तो' (उप ७२८ टी, राज) ।
 पोली देखो पओली, 'बद्धेसु पोलिदारेसु, गविसत्तो म धुत्तय' (शा १२, उप पृ ८४, धर्मवि ७७) ।
 पोछ वि [दे] पोला, शुधिर, खाली, रिक्त, 'पोल्लो व्व मुट्टी जह से असारें' (उत्त २०, ४२, याया १, १—पत्र ६३, पव ८१), 'वका कीडक्खइया चित्तलया पोल्लया य द्ढा य' (महा) ।
 पोहड वि [दे] ऊपर देखो, 'वका कीडक्खइया चित्तलया पोल्लया य द्ढा य' (श्रौष ७३५, विचार ३३६) ।
 पोहर न [दे] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप (संबोध ५८) ।
 पोस अक [पुप्] पुष्ट होना । पोसइ (घाल्वा १४५, अवि) ।
 पोस सक [पोपय] ? पुष्ट करना । २ पालन करना । पोसेइ (पंचा १०, १४), 'मायर पियर पोस' (सुस १, ३, २, ४), पोसाहि (सुस १, २, १, १६) । कवच्च. पोसिज्जत (गा १३५) ।
 पोस वि [पोय] ? पोयक, पुष्टि-कारक, 'अभिकवण पोसवत्थ परिहिति' (सुस १, ४, १, ३) । २ पुं. पोपण, पुष्टि (संबोध ३६) ।
 पोस पु [पोस] ? अगान-देश, गुदा (पएह १, ४—पत्र ७८, श्रौष ५५६, श्रौप) । २ योनि (निदु ६) । ३ लिंग, उपत्य, 'एवसेत्तपरिस्सवा बोदी पएणत्ता, त जहा, दो सोत्ता, दो एत्ता, दो घाणा, सुह, पोसे, पाऊ' (डा ६—पत्र ४५०) ।
 पोस पु [पीय] पीय मास (सम ३५) ।
 पोसग वि [पोपक] ? पुष्टि-कारक । २ पालन-कर्ता (पएह १, २) ।

बहुला स्त्री [बहुला] १ गो, गैया (पाम्र) ।
२ इस नाम की एक स्त्री (उवा) । °वण न
[°वन] मथुरा नगरी का एक प्राचीन वन
(तो ७) ।

बहुलि पु [बहुलिन्] स्वनाम ध्यात एक
राज पुत्र (उप ६३७) ।

बहुली स्त्री [दे] माया, कपट, दम्भ (सुपा
६३०) ।

बहुल्लिआ स्त्री [दे] बडे भाई की स्त्री (पड्) ।

बहुली स्त्री [दे] क्रीडोचित शालभणिका, खेलने
की पुतली (पड्) ।

बहुवी देखो बहुई (हे २, ११३) ।

बहुवीहिं पु [बहुवीहिं] व्याकरण-प्रसिद्ध
एक समास (अणु १४७) ।

बहुअ वि [प्रभूत] बहुत, प्रचुर (गउड) ।

बहेडय पुं [विभीतक] १ बहेडा का पेड
(हे १, ८८, १०५, २०६) । २ न बहेडा
का फल (कुमा) ।

वा° वि व. [द्वा°, द्वि] दो, दो की संख्या-
वाला । इस (अप) देखो °वीस (पिग) ।
°ईस देखो °वीस (पिग) । °णउइ स्त्री
[°नवति] वानवे, ६२ (सम ६६, कम्म
६, २६) । °णउय वि [°नवत] ६२ वां
(पउम ६२, २६) । °णुवइ देखो °णउइ
(रयण ६२) । °याल, °यालीस स्त्रीन
[°चत्वारिंशत्] ब्यालीस, चालीस और
दो, ४२ (उव, नव २, भग, राम ६६,
कप, श्रोप), स्त्री. °याला, °यालीसा (कम्म
६, ६, कप) । °यालीसइम वि [°चत्वा-
रिंशत्तम] ब्यालीसवां, ४२ वां (पउम ४२,
३७) । °र, °रस वि व. [°दशान्] बारह,
१२, 'वारगिाणुपडिमधरो' (सवोध २२,
कम्म ४, ५, १५, नव २०, ६७, कप,
जो २८, उवा) । °रस वि [°दश] बारहवां,
१२ वां (सुख २, १७) । °रसग स्त्रीन
[°दशान्] बारह जैन अग-ग्रथ (पि ४११),
स्त्री. °गी (राज) । °रसम वि [°दश]
बारहवां (सुम २, २, २१, पव ४६, महा) ।
°रसमासिय वि [°दशमासिक] बारह
मास का, बारह मास-सन्धो (कुप्र १४१) ।
°रसय न [°दशक] बारह का समूह (शोधभा

१५) । °रसवरिसिय वि [°दशवार्षिक]
बारह वर्ष का (मोह १०२, कुप्र ६०) ।

°रसविह वि [°दशविध] बारह प्रकार का
(नव ३०) । °रसाह न [°दशाह,
°दशाख्य] १ बारहवां दिन । २ जन्म के बार-
हवें दिन किया जाता उत्सव, बरही (याया
१, १, कप, श्रोप, सुर ३, २५) । °रसी स्त्री
[°दशी] बारहवी तिथि, द्वादशी (सम २६,
पउम ११७, ३२, तो ७) । °रसुत्तरसय वि

[°दशोत्तरशत] एक सौ बारहवां (पउम
११२, २३) । °रह देखो °रस = दशान् (हे
१, २१६) । °वट्टि स्त्री [°पट्टि] बासठ,
६२ (सम ७५, पंच ५, १८, सुर १३,
२३८, देवेन्द्र १३७) । °वण (अप) । देखो
°वन्न (पिग) । °वणण देखो °वन्न (कुमा) ।
°वत्तर वि [°सप्तत] बहत्तरवां, ७२ वां

(पउम ७२, ३८) । °वत्तरि स्त्री [°सप्तति]
बहत्तर, ७२ (सम ८३, भग, श्रोप, प्रासू
१२६) । °वन्न स्त्रीन [°पञ्चाशत्] बावन,
पचास और दो, ५२ (सम ७१, महा),
'वावन्न होति जिणभवणा' (सुख ६, १) ।

°वन्न वि [°पञ्चाश] बावनवां (पउम ५२,
३०) । °वीस स्त्रीन [°विंशति] बाईस,
२२ (भग, जो ३४), स्त्री. °सा (पि ४४७) ।
°वीस वि [°विंश] बाईसवां, २२ वां (पउम
२०, ८२, पत्र ४६) °वीसइ देखो वीस =
विंशति (भग, पव १८६) । °वीसइम वि

[°विंशतितम] १ बाईसवां, २२ वां (पउम
२२, ११०, अत २६) । २ लगातार दस
दिन का उपवास (याया १, १—पत्र ७२) ।
°वीसविह वि [°विंशतिविध] बाईस प्रकार
का (सम ४०) । °सट्टि वि [°पट्ट] बासठवां,
६२ वां (पउम ६२, ३७) । °सट्टि स्त्री
[°पट्टि] बासठ, ६२ (सम ७५, पिग) ।

°सी, °सीइ स्त्री [°अशीति] ब्यासी, ८२
(नव २, सम ८६, कप, कम्म ५, १७) ।
°सीइम वि [°अशीतितम] ब्यासीवां, ८२
वां (पउम ८२, १२२) । °हत्तर (अप) देखो
°हत्तरि (सण) । °हत्तरि स्त्री [°सप्तति]
बहत्तर, ७२ (कप, कुमा, सुपा ३१६) ।

वाअ पु [दे] बाल, शिशु (पड्) ।

बाइया स्त्री [दे] मां, माता, गुजराती में 'बाई'
(कुप्र ८७) ।

बाउह्लया स्त्री [दे] पञ्चालिका, पुतली,
वानह्लिआ } 'आलिहियभित्तिवाउल्लय व न हु
वाउह्ली } मुजिह तरइ' (वज्जा ११८,
कपू, दे ६, ६२) ।

बाउस देखो वउस (पिड २४, श्रोघ ३४८) ।

बाउसिय वि [वाकुशिक] 'वकुश' चारित्र-
वाला (सुख ६, १) ।

बाउसिया स्त्री [वकुशिका] 'वकुश' चारित्र-
वाली (याया १, १६—पत्र २०६) ।

बाढ क्वि वि [बाढ] १ अतिशय, अत्यन्त, घना
(उप ३२०, पाम्र, महा) । °ककार पु
[°कार] स्वीकार-सूचक उक्ति (विते ५६५) ।

बाण पु [दे] १ पनस वृक्ष, कटहर का पेड ।
२ नि. सुभग (दे ६, ६७) ।

बाण पुत्री [बाण] १ वृक्ष-विशेष, कटहरैया
का माछ (पण १७—पत्र ५२६, कुमा) ।
२ पु शर, बाण (कुमा, गउउ) । ३ पाच की
सख्या (सुर १६, २४६) । °वत्त न [°पात्र]
तूणीर, शरधि (से १, १८) ।

बाध देखो बाह = बाध । कवकू वावीअमाण
(पि ५६३) ।

बाधा स्त्री [बाधा] विरोध (धर्मसं ११७) ।

बाधिय वि [बाधित] विरोधवाला, प्रमाण-
विच्छेद (धर्मसं २५६) ।

बाहाण देखो बम्हण (हे १, ६७, पड्) ।

बाय न [बाक] वक समूह (श्रा २३) ।

बायर वि [बादर] १ स्थूल, मोटा, असूक्ष्म
(पण १, १, पव १६२, दे ४४) । २ नववां
गुण-स्वानक (कम्म २, ३, ५, ७) । °नाम
न [°नामन्] कर्म-विशेष, स्थूलता-हेतु कर्म
(सम ६७) ।

बार न [द्वार] दरवाजा (हे १, ७६) ।

बारगा स्त्री [द्वारका] स्वनाम-प्रसिद्ध नगरी,
जो आजकल भी काठियावाड में 'द्वारका' के
ही नाम से प्रसिद्ध है (उत्त २२, २२, २७) ।
बारवई स्त्री [द्वारवती] १ ऊपर देखो (सम
१५१, याया १, ५, उप ६४८ टी) । २
भगवान् नेमिनाथ की दीक्षा शिविका (विचार
१२६) ।

°फालण न [स्फालन] आघात (गउड, गा ५४६) ।	प्रस्स (अप) देखो परस्स = इश् । प्रस्तदि (हे ४, ३६३) ।	प्रिय (अप) देखो पिअ = प्रिय (हे ४, ३६५, कुमा) ।
°फुड देखो फुड (कुमा, रंभा) ।	प्राइन्व } (अप) देखो पाय = प्रायस् (हे ४, ४१४, कुमा) ।	प्रेकिअ न [दे] वृष रटित, वैल की चिल्लाहट (षट्) ।
°फोडण देखो फोडण (गा ३८१) ।	प्राउ } (अप) देखो पाय = प्रायस् (हे ४, ४१४, कुमा) ।	प्रेयड वि [दे] वृत्तं, ठग (दे १, ४) ।

॥ इश् सिरिपाइअसद्महणवम्मि पन्नाराइसद्मकलणो
सत्तावीसद्मो तरंगो परिसमत्तो ॥

फ

फ पु [फ] श्रोष्ठ-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप्र) ।
 फद् अक [स्पन्द] थोडा हिलना, फरकना ।
 फदह, फंवति (हे ४, १२७, उत्त १४, ४५) ।
 वक्क फदत्त, फदमाण (सूअ १, ४, १, ६, ठा ७—पत्र ३८३, कप्प) ।
 फंद पुं [स्पन्द] किञ्चित् चलन (षट्, सण) ।
 फदण न [स्पन्दन] ऊपर देखो (विसे १८४७, हे २, ५३, प्राप्र) ।
 फदणा लो [स्पन्दना] ऊपर देखो (सुअनि ८ वी) ।
 फदिअ वि [स्पन्दित] १ कुछ हिला हुआ, फरका हुआ (पाथ) । २ हिलाया हुआ, ईपत् चालित (जीव ३) ।
 फफ (अप) अक [उद् + गम्] उछलना ।
 फफाइ (पिग १८४, ५) ।
 फंफसय पु [दे] लता-भेद, बल्ली-विशेष (दे ६, ८३) ।
 फंफाइ (अप) वि [कम्पायित, कम्पित] कौपाया हुआ, कम्प-प्राप्त (पिग) ।
 फंस अक [विसम् + वद्] असत्य प्रमाणित होना, प्रमाण-विचल होना, अप्रमाण साबित होना । फसइ (हे ४, १२६) । प्रयो, भुका फंसाविही (कुमा) ।

फंस सक [स्पृश] छूना । फंसइ, फसेइ (हे ४, १८२, प्राक २७) । कर्म, फसिजइ (कुमा) ।
 फस पु [स्पर्श] स्पर्श, छूना (पाम्, प्राप्र, प्राक २७, गा २६६) ।
 फसण न [स्पर्शन] छूना, स्पर्श करना (उप ३३० टी; घर्मवि ४३, मोह २६) ।
 फसण वि [पासन] अपसद, अवम, 'कुल-फंसणो' (सुख २, ६, स १६८, भवि) ।
 फसण वि [दे] १ युक्त, सयत । २ मलिन, मैला (दे ६, ८७) ।
 फसुल वि [दे] युक्त, व्यक्त (दे ६, ८२) ।
 फसुली लो [दे] नवमालिका, पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष (दे ६, ८२) ।
 फक्किया लो [फक्किका] अन्ध का विषम स्थान, कठिन स्थान (सुर १६, २४७) ।
 फग्गु वि [फलगु] १ असार, निरर्थक, तुच्छ (सुर ८, ३, सबोध १६; गा ३६६ अ) । २ लो, भगवान् अजितनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) । °मित्त पु [°मित्त] स्वनाम-व्याप्त एक जैन मुनि (कप्प) । °रक्खिय पु [°रक्खित] एक जैन मुनि (आव १) । °सिरी लो [°श्री] इक्षु अवसर्पिणी काल के पंचम भारे में होनेवाली अन्तिम जैन साध्वी (विचार ५३४) ।

फग्गु पु [दे फल्गु] वसन्त का उत्सव, फगुआ (दे ६, ८२) ।
 फग्गुण पुं [फाल्गुण] १ मास विशेष, फागुन का महिना (पाथ, कप्प) । २ अर्जुन, मध्यम परण्डुपुत्र (वजा १३०) ।
 फाग्गुणी लो [फाल्गुनी] १ फागुन मास की पूर्णिमा (इक, सुज १०, ६) । २ फागुन मास की अभावस्था (सुज १०, ६) । ३ एक गृह-पति की लो (उवा) ।
 फग्गुणी लो [फाल्गुनी] नक्षत्र विशेष (ठा २, ३) ।
 फट्ट अक [स्फट्] फटना, टूटना । फट्टइ (भवि) ।
 फड सक [स्फट्] १ खोचना । २ शोधना । वक्क 'अत्त फडमाणीओ' (सुपा ६१३) । हेक्क फडिउ (सुपा ६१३) ।
 फड न [दे] साँप का सर्व शरीर (दे ६, ८६) ।
 फड पुन [दे, फट] साँप की फण (दे ६, ८६, कुम ४७२) ।
 फडही [दे] देखो फलही (गा ५५० अ) ।
 फडा लो [फटा] साँप की फन, सर्प-फण (आया १, २, पदम ५२, ५, पाम्, औप) ।
 °ल वि [°वत्] फलवाला (हे २, १५६, चड) ।

बाहुलेर पु [बाहुलेय] काली गाय का बछड़ा (अणु २१७) ।

बाहुल्ल न [बाहुल्य] बहुलता, प्रचुरता (पिड ५६, भगः सुपा २७, उप ६०७) ।

बाहुल्ल वि [बाष्पवत्] अश्रुवाला (कुमा, सुपा ४६०) ।

वि वि ब [द्वि] दो, २, 'बिन्नि' (हे ४, ४१८, नव ४, ठा २, २, कम्म ४, २, १०, सुख १, १४) । 'जडि पु [जटिन्] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०) । 'दल न [दल] चना आदि वह धान्य जिसके दो टुकड़े बराबर के होते हैं, 'जह विदलं सूलीण' (वि ३) । 'याल देखो वा-याल (कम्म ६, २८) । 'यालसय पुन [चत्वारिंशच्छत] एक सौ बेअलीस, १४२ (कम्म २, २६) । 'विह वि [विध] दो प्रकार का (पिंग) । 'लट्टि ली [षष्टि] वासठ, ६२ (सुज्ज १०, ६ टी) । 'सत्तारि, 'सयरि ली [सप्तति] बहत्तर, ७२ (पव १६, जीवस २०६, कम्म ३, ५) ।

वि } वि [द्वितीय] दूसरा (कम्म ३, १६, विअ } पिंग) । 'कसाय पु [कषाय] अग्रत्याख्यानावरण नामक कषाय (कम्म ४, ५६) ।

विअ न [द्विक] दो का सपुदाय, युग्म, युगल (भगः कम्म १, ३३, प्रासू १६) ।

विआया ली [दे] कीट-विशेष, सलग्न रहने-वाला कीट-द्वय (दे ६, ६३) ।

विइअ देखो विइज्ज (हे १, ५, पव १६४) ।

विइआ देखो वीआ (राज) ।

विइज्ज वि [द्वितीय] १ दूसरा (हे १, २४८, प्रासू ५६) । २ सहाय, मदद करने-वाला (पात्र, सुर ३, १४),

'जे दुहियम्मि न दुहिया,

आवइपत्ते विइज्जया नेव ।

पहुणो न ते उ भिच्चा,

धुत्ता परमत्थयो ऐया'

(सुर ७, १४५) ।

विउण वि [द्विगुण] दुगुना (हे १, ६४, २, ७६, गा २८६) । 'रय वि [कारक] दुगुना करनेवाला (भवि) ।

विउण सक [द्विगुण्य] दुगुना करना । विउणोइ (पि ५५६) ।

विंट न [वृन्त] फलादि का बन्धन, 'बधण विट' (पात्र) । 'सुरा ली [सुरा] मदिरा, दाह, 'बिंटसुरा पिट्ठखजरिया मइरा' (पात्र) ।

बित देखो बू = ब्रू ।

बिंदिय वि [द्वीन्द्रिय] जिसको त्वचा और जीभ ये दो ही इन्द्रियां हो वह (श्रौप) ।

बिंदु पुन [विन्दु] १ अल्प अक्ष । २ बिन्दी, शून्य, अनुस्वार । ३ दोनो भ्रू का मध्य भाग । ४ रेखागणित का एक चिन्ह, 'बिंदुणो, बिंदूइ' (हे १, ३४, कप्प, उप १०२२, स्वप्न ३६, कस, कुमा) । 'कला ली [कला] अनुस्वार, बिन्दी (सिरि १६६) । 'सार न [सार] १ चौदहवां पूर्व, जैन ग्रन्थाश-विशेष (सम २६, विसे ११२६) । २ पु मौर्य वंश का एक राजा, राजा चन्द्रगुप्त का पुत्र (विसे ८६२) ।

बिंदुइअ वि [विन्दुकित] बिन्दु-युक्त, बिन्दु-विलिप्त (पात्र, गउड) ।

बिंदुइज्जत वि [विन्दुगमान] बिन्दुओं से व्याप्त होता (से ११, १२५) ।

बिंद्रावण न [वृन्दावन] मथुरा के पास का एक वैष्णव-तीर्थ (प्राक्क १७) ।

बिंब सक [बिम्ब] प्रतिबिम्बित करना । कर्म. विविज्जइ (सूक्त ४६) ।

बिंब न [बिम्ब] १ प्रतिमा, मूर्ति (कुमा) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ न बिम्बीफल, कुन्दरुन का फल (शाया १, ८—पत्र १२६ पात्र, कुमा, दे २, ३६) । ४ प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाया । ५ अर्थ-शून्य आकार, 'अरण जण पस्सति विबभूय' (सूत्र १, १३, ८) । ६ सूर्य तथा चन्द्र का मण्डल (गउड, कप्प) ।

बिंबवय न [दे] फल-विशेष, भिलावां, 'बिंबवय भल्लाय' (पात्र) ।

बिबिसार देखो भिभिसार (अंत) ।

बिंबी ली [बिम्बी] लता-विशेष, कुन्दरुन का गाछ (कुमा) । 'फल न [फल] कुन्दरुन का फल (सुपा २६३) ।

बिंबोवणय न [दे] १ शोभ । २ विकार । ३ ओसीसा, उच्छीर्षक (दे ६, ६८) ।

विह सक [बृह] पोपण करना । क. देखो विहणिज्ज ।

बिहणिज्ज वि [बृहणीय] पुष्टि जनक (ठा ६—पत्र ३७५, शाया १, १—पत्र १६) ।

बिंहिअ वि [वृंहित] पुष्ट, उपचित (हे १, १२८) ।

विग्गाइआ } ली [दे] कीट-विशेष, सलग्न
विग्गाई } रहता कीट-युग्म, गुजराती मे
'बेगाई' (दे ६, ६३) ।

बिज्ज देखो बीज, 'विज्ज पिव वड्डिया बहवे' (पउम ११, ६६) ।

बिज्जउर न [बीजपूर] फल-विशेष, एक तरह का नौबू, 'विज्जउरचिन्भिडेहि कुणइ पिहा-णाइ सव्वत्थ' (सुपा ६३०) ।

बिज्जय (अप) देखो विइज्ज (भवि) ।

विट्ट पुं [दे] बैठा, लडका, पुत्र (चड) ।

विट्टी ली [दे] बैठी, पुत्री, लडकी (चड, हे ४, ३३०) ।

बिट्ट वि [दे. विष्ट] बैठा हुआ, उपविष्ट (श्रौष ४७१) ।

बिडाल पुं [बिडाल] मार्जार, बिलाव, बिलार, बिल्ला (पि २४१) ।

बिडालिआ } ली [बिडालिका, 'ली]
बिडाली } बिल्ली, मार्जारी, बिलारी,
बिलैया (सम्मत्त १२२, पि २४१) । देखो बिरालिआ ।

बिडिस देखो बडिस (उप १४२ टी) ।

बिदिय देखो विइअ (उप २७६) ।

बिन्ना ली [बिन्ना] भारत की एक नदी (पिड ५०३) ।

बिम्बोअ पु [बिम्बोक] १ ली की श्रु गार-चेष्टा-विशेष, इष्ट अर्थ की प्राप्ति होने पर गर्व से उत्पन्न अनादर-क्रिया (परह २, ४—पत्र १३१, शाया १, ८—पत्र १४२, भत्त १०६) । २ न. उपधान, तकिया, ओसीसा, 'सयणीअ तुलिअ सबिम्बोअ' (गच्छ ३, ८) ।

बिम्बोअ पु [बिम्बोक] काम-विकार (अणु १३६) ।

बिम्बोइअ न [बिम्बोकित्त] ली की श्रुगार-चेष्टा का एक भेद (परह २, ४—पत्र १३१) ।

बिम्बोयण न [दे] उपधान, तकिया, ओसीसा (शाया १, १—पत्र १३) ।

कुताइफलेण' (आचा १, ६, ३, १०) ।
 'भत, 'व वि [°वत्] फलवाला (एग्या १, ४, पचा ४) । 'वडिदय, वडिय न [°वडिक] १ नगर-विशेष, फलोधि-नामक मस्देशीय नगर । २ वहाँ का एक जैन मन्दिर (ती ५२) ।

फलअ } पुंन [फलक] १ काष्ठ आदि का
 फलम } तख्ता (आचा, गा ६५६, तेंदु २६, सुर १०, १६१, औप) । २ जुए का एक उपकरण (औप, घण ३२) । ३ ढाल, 'भरिएहि फलपहि' (विपा १, ३, कुमा, सार्ध १०२) । ४ देवो फल (आचा) । 'सज्जा खी [°शय्या] काष्ठ का तख्ता जिसपर सोया जाय (भग) ।

फलण न [फलन] फलना (सुपा ६) ।

फलह } पुन [फलह, °क] फलक, काठ
 फलहग } आदि का तख्ता, 'अस्सजए भिक्खु-
 पडियाए पीढ वा फलहग वा णिस्सेण वा उद्दहलं वा आहट्टु उस्सविय दुधेज्जा'
 (आचा २, १, ६, १), 'भूमिसेज्जा फलह-
 सेज्जा' (औप), 'घरफवहे' (दे १, ८, पि २०६), 'पेक्खइ मन्दिराई फलहहुग्घाडिय-
 जालगवक्खइ', 'अह फलहवरेण दरिसिय-
 गुक्कवरदेसइ' (भवि),

'पिहुपत्तासयमयल गुणनियरनिबद्धफलहसपाय ।
 सजमियसयलजोगं बोहिथं सुणिवरसरिच्छं'
 (सुर १३, ३६) ।

फलहिआ } खी [फलहिका, फलही] काठ
 फलही } आदि का तख्ता, 'सूरिए अत्थमिए फलहिधं घडेज्जादवद', 'इत्थ पहाणफलही चिट्ठइ' (ती ११), 'कलावईए ख्व सिग्घ आलिहसु चित्तफलहीए' (सुर १, १५१) ।

फलही खी [दे] १ कपास, कपास (दे ६, ८२, गा १६५, ३५६) । २ कपास की लता, 'दरफुडिअवेंटमारोणआइ हसिअं व फलहीए' (गा ३६०) ।

फलाव सक, [फलाय] फलवाच बनाना, सफल करना, 'ततोवि अ अरण्यतमा निग्रय-
 फलेण फलावति' (रत्न २६) ।

फलावह वि [फलावह] फलप्रद, फल को धारण करनेवाला (पउम १४, ४४) ।

फलासव पु [फलासव] मद्य-विशेष (पएण १७) ।

फल पु [दे] १ लिंग, चिह्न । २ वृषभ, बैल (दे ६, ८६) ।

फलिअ वि [फलित] १ विकसित, 'फुडिअं फलिअं च दलिअमुद्दिअं (पाम्) । २ फल-
 युक्त, जिसको फल हुआ हो वह (एग्या १, ११) ।

फलिअ न [दे] वायन, बायन, भोजन आदि का वाटा जाता उपहार (ठा ३, ३—पत्र १४७) ।

फलिआरी खी [दे] दुर्वा, कुश वृण (दे ६, ८३) ।

फलिणी खी [फलिनी] प्रियवृक्ष (दे १, ३२, ६, ४६, पाम्, कुमा, गा ६६३) ।

फलह पु [परिच] १ अगला, आगल, 'अगला फलिहो' (पाम्, औप), 'ऊसिय-
 फलिहा' (भग २, ५—पत्र १३४) । २ अन्न-विशेष, लोहे का मुद्गर आदि अन्न । ३ गृह, घर । ४ काच-षट । ५ ज्योतिष-शास्त्र-
 प्रसिद्ध एक योग (हे १, २३२, प्राम्) ।

फलह पु [स्फटिक] १ मणि-विशेष, स्फटिक मणि (जी ३, हे १, १६७, कम्पु) । २ एक विमानावास, देव-विमान-विशेष (वेवेन्द्र १३२, इक) । ३ रत्नप्रभा प्रथिवी का एक स्फटिक-
 मय काण्ड (ठा १०) । ४ गन्धमादन पर्वत का एक कूट (इक) । ५ कुरण्डल पर्वत का एक कूट । ६ खक पर्वत का एक शिखर (राज) । 'गिरि पु [गिरि] कैलास पर्वत (पाम्) ।

फलह पु [फलह] फलक, काठ आदि का तख्ता, 'अनेसिणो फलिहा' (पाम्), 'नाणो-
 वगरणभूयाण कवलियाफलहपुत्थियाईए' (आप ८) ।

फलह पुंन [स्फटिक] आकाश (भग २०, २) ।

फलह न [दे] कपास का टेंटा, टेंट या ढेढ़ी (अणु ३५ टी) ।

फलहस पु [फलहसक] वृक्ष-विशेष (दे ४, १२) ।

फलहा खी [परिखा] खाई, किले या नगर के चारों ओर की नहर (औप, हे १, २३२, कुमा) ।

फलिहि देवो परिहि (प्राक् १५) ।

फलिही देवो फलही = दे (अणु ३५ टी) ।

फली खी [फली] काठ आदि की छोटी तख्ती, 'ततो चदणफलोउ वणिएवहुम्मि विकिउ कहवि (सुपा ३८५) ।

फलोवय } वि [फलोपग] फल-प्राप्त, फल-
 फलोवा } सहित (ठा ३, १ पत्र—११३) ।

फल्ल वि [फल्य] सूते का वस्त्र, सूती कपडा (बृह १) ।

फन्वीह सक [लम्] म्येष्ट लाम प्राप्त करना, गुजराती मे 'फाववु' । फन्वीहामो (बृह १) । फन्व (दश० अगस्त्य० सू० ३०३) ।

फसल वि [दे] १ सार, चित्तकवरा, 'फसल सबल सारं किन्मीरं चित्तल च वोगिल्ल' (पाम्, दे ६, ८७) । २ स्यासक (दे ६, ८७) ।

फसलाणिय } वि [दे] उत-विभूष, जिसने
 फसलिअ } विभूषा की हो वह, शृङ्गारित (दे ६, ८३), 'फसलियाणि कुकुमराएण' (स ३६०) ।

फसुल वि [दे] युक्त (दे ६, ८२) ।

फाइ खी [स्फाति] बुद्धि (ओष ४७) ।

फाईकय वि [स्फोतीकृत] १ फेलाया हुआ । २ प्रसिद्ध किया हुआ, 'वइनेसिय परीयं फाईकयमएणमरखेहि' (विते २५०७) ।

फागुण देवो फगुणा (पि ६२) ।

फाड सक [पाटय्, स्फाटय्] फाडना फाडेइ (हे १, १६८, २३२) । वक्क, फाड (कुमा) ।

फाडिय वि [फाटित, स्फाटित] विदार्ति (भवि) ।

फाणिय पुन [फाणित] १ युद्ध, 'फाणि युवो मएणति' (निह ४) । २ युद्ध विकार-विशेष, आदं युद्ध, पानी से ध्रां युद्ध (औप, कस, पिड २३६, ६२५, ४) । ३ न्याय (पएण १७—पत्र ५३०)

फाय वि [स्फोत] १ वृद्ध । २ निस्तीर्थं स्थान (विते २५०७) ।

फार वि [स्फार] १ प्रचुर, बहुव, 'फार भारमज्जिअसाहानयसकुलो महासाटो' (घ ५५) । २ विशाल, विपुल । ३ वि

बुदीर पु [दे] १ महिष, भैसा । २ वि. महान्, वडा (दे ६, ६८) ।

बुध न [बुध्न्] १ वृक्ष का मूल । २ कोई भी मूल, मूलमात्र (हे १, २६, षड्) ।

बुवा बी [दे] चिल्लाहट, पुकार (सुपा ५६५) ।

बुवु पु [दे] ऊपर देखो (कच ३१) ।

बुवुअ न [दे] वृन्द, ग्रथ, समूह (दे ६, ६४) ।

बुक्क वि [दे] विस्मृत (वव १) ।

बुक्क अक [गर्ज्, बुक्क] गर्जन करना, गरजना । बुक्कइ (हे ४, ६८) ।

बुक्क अक [भप्, बुक्क्] खान—कुत्ता का भूँकना । बुक्कइ (षड्) ।

बुक्क पुन [दे] १ तुष, छिलका (सुल १८, ३७) । २ वायु विशेष, 'बुक्कतबुक्कसबुक्कसदुक्क' (सुपा ५०) ।

बुक्कण पु [दे] काक, कौआ (दे ६, ६४, पात्र) ।

बुक्कस देखो वोक्कस (राज) ।

बुक्का बी [दे] १ मुष्टि (दे ६, ६४, पात्र) । २ वीहिमुष्टि (दे ६, ६४) । ३ वायु-विशेष, 'ढकाडकहुडुकाबुक्कासबुक्ककरडिपभिईणं आउजाण' (सुपा १६५) ।

बुक्का बी [गर्जना] गर्जन, गर्जारव (पचम ६, १०८, गडड) ।

बुक्कार पु [दे] वृद्धार] गर्जन, गर्जना (पचम ७, १०५, गडड) ।

बुक्कास पु [दे] तन्तुवाय, जुलाहा (आचा २, १, २, २) ।

बुक्कासार वि [दे] भीरु, डरपोक (दे ६, ६५) ।

बुक्किअ वि [गर्जित] जिसने गर्जना की हो वह, 'अह बुक्किया गुरु भवा' (कुमा) ।

बुज्जक अक [बुध्] १ जानना, ज्ञान करना, समझना । २ जागना । बुज्जइ (उव) ।

भूका बुज्जिअसु (भग) । भवि बुज्जिअहिइ (भोप) । वक्क. बुज्जमत, बुज्जमाण (पिंग, आचा) । सक्क बुज्जमा (हे २, १५) । क. बुद्ध, बोद्धव्य, बोधव्य (पिंग, कुमा, नव २३, भग, जो २१) ।

बुज्जमविचिय } वि [बोधित] १ जिसको ज्ञान
बुज्जमविअ } कराया गया हो वह । २

जगाया गया (कुप्र ६४, सुपा ४२५, प्राक्क ६८) ।

बुज्जिअ वि [बुद्ध] ज्ञात, विदित (पात्र) ।

बुज्जिअर वि [बोद्धु] १ जाननेवाला । २ जाननेवाला (प्राक्क ६८) ।

बुडबुड अक [बुडबुडय] बुडबुड आवाज करना, 'सुरा जहा बुडबुडेइ अव्वत्त' (चेइय ४६२) ।

बुडु अक [बुड्, मरुज्] डूबना । बुडुइ (हे ४, १०१, उव, कुमा, भवि) । भवि. बुडुसु (अप) (हे ४, ४२३) । वक्क. बुडुत, बुडुमाण (कुमा, उप १०३१ टी) । प्रयो, वक्क. बुडुवत (सवोष १५) ।

बुडु वि [बुडित, मअ] डूबना हुआ, निमग्न (धम्म १२ टी, गा ३७, रसा २३, सुर १०, १८६, भवि), 'धयबुडुमडगाई' (पव ४ टी) ।

बुडुण न [बुडन] डूबना (सवे २, कप्पु) ।

बुडुण पु [दे] महिष, भैसा (षड्) ।

बुडुइ वि [वृद्ध] वृद्धा (पिंग) । बी ०ड्ढा, ०ड्ढी (काप्र १६७, सिरि १७३) ।

बुण्ण वि [दे] १ भीत, डरा हुआ । २ उद्विग्न (दे ७, ६४ टी) ।

बुत्ती बी [दे] ऋतुमती बी (दे ६, ६४) ।

बुद्ध वि [बुद्ध] १ विद्वान्, परिणत, ज्ञात-तत्व (सम १, उप ६१२ टी, आ १२, कुप्र ४०, श्रु १) । २ जागा हुआ, जागृत (सुर ६, २४३) । ३ भूत, भविष्य और वर्तमान का जानकार (चेइय ७१३) । ४ विज्ञात, विदित (ठा ३, ४) । ५ पुं जिन-देव, अर्हन्, तीर्थंकर (सम ६०) । ६ बुद्धदेव, भगवान् बुद्ध (पात्र, दे ७, ५१, उर ३, ७, कुप्र ४४०, धम्मस ६७२) । ७ आचार्य, सुरि (उत्त १, १७) । ०पुत्त पुं [०पुत्र] आचार्य शिष्य (उत्त १, ७) । ०बोहिय वि [०बोधित] आचार्य बोधित (नव ४३) । ०माणि वि [०मानिन्] निज को परिणत माननेवाला (सुप्र १, ११, २५) । ०लय पुन [०लय] बुद्ध-मन्दिर (कुप्र ४४२) ।

बुद्ध वि [बौद्ध] १ बुद्ध-भक्त । २ बुद्ध-सवन्धी, बुद्ध का (ती ७, सम्मत ११६) ।

बुद्ध देखो बुज्जक ।

बुद्ध देखो बुंघ (सुज २०) ।

बुद्धत पुन [बुध्नान्त] अथो-भाग, नीचे का हिस्सा 'ता राहू ए देवे चद वा सूर वा

गेएहमाणे बुद्धतेण गिरिहत्ता बुद्धतेण मुयई' (सुज २०) ।

बुद्धि बी [बुद्धि] १ मति, मेधा, मनीषा, प्रज्ञा (ठा ४, ४, जो ६, कुमा, कप्प, प्रासू ४७) । २ देव प्रतिमा-विशेष (राया १, १ टी—पत्र ४३) । ३ महापुण्डरीक हृद की अघिष्ठात्री देवी (ठा २, ३—पत्र ७२, इक) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) । ५ तीर्थंकरी । ६ साध्वी (राज) । ७ अहिंसा, दया (पएह २, १) । ८ पु इस नाम का एक मन्त्री (उप ८४४) । ९ कूड न [९कूट] पर्वत-विशेष का शिखर (राज) । ०बोहिय वि [०बोधित] १ तीर्थंकरी—बी-तीर्थंकर से प्रतिबोधित । २ सामान्य साध्वी से बोधित (राज) । ०मत वि [०मत] बुद्धिवाला (उप ३३६, सुपा ३७२, महा) । ०ल पु [०ल] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध श्रेष्ठी (महा) । २ देखो ०ल्ल (राज) । ०ल्ल वि [०ल] बुद्ध, मूर्ख, दूसरे की बुद्धि पर जीनेवाला, 'तस्स पडियमाणे (ए पि)स्स बुद्धिस्स दुरप्पणे' (अधभा २६ टी, २७) । ०वत देखो ०मत (भवि) । ०सागर, ०सायर पु [०सागर] विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी का एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य और ग्रन्थकार (सुर १६, २४५, सार्ध ६६, सम्मत ७६) । ०सिद्ध पु [०सिद्ध] बुद्धि मे सिद्धहस्त, सपूर्ण बुद्धिवाला (आवम) । ०सुद्री बी [०सुद्री] एक मन्त्री-कन्या (उप ७२८ टी) ।

बुध देखो बुह (पएह १, ५, सुज २०) ।

बुवुअ अक [बुवूय] 'बु' 'बु' आवाज करना, छाग—वकरा का बोलना । बुव्वयइ (कुप्र २४) । वक्क बुवुवुयत (कुप्र २४) ।

बुवुअ पु [बुदुबुदु] बुलबुला, पानी का बुलका (दे ६, ६५, औप, पिंड १६, राया १, १, वै ४५, प्रासू ६६, दं १३) ।

बुमुक्खा बी [बुमुक्षा] भूख, खाने की इच्छा (अभि २०७) ।

बुय वि [बुव] बोलनेवाला (सुप्र १, ७, १०) ।

बुयाण देखो बुव ।

फिरक पुं न [दे] खाली गाडो, भार डोने-
वाली खाली गाडो, 'समचित्ता दुवि वसहा
सगड कड्डत उवलभरियपि। अट्टुवि विभि-
नचित्ता फिरकजुत्तावि तम्मति' (सुपा
४२४)।

फिरिय वि [गत] गया हुआ,
'गोधरुवालएहेउं पुरिमा इह
केवि आगओ फिरिया।
ज सुम्मइ आसन्ने
सुनेवि हु एस सखरवो'
(धर्मवि १३६)।

फिलिअ देखो फिलिअ (से ८, ६८)।
फिल्लुस अक [दे] फिसलना, खिसकना,
गिरना। वक. 'सेवालयभूमितले फिल्लुस-
माणो य धामधामम्मि' (सुर २, १०५)।
देखो फेल्लुस।

फीअ देखो फाय (सुम २, ७, १)।
फीगिया बी [दे] एक जात की मोठाई,
गुजराती मे 'फेरी' (सम्मत्त ५७)।
फुका बी [दे] फूँक, मुँह से हवा निकालना
(मोह ६७)।

फुकार पु [फुकार] फुकार, कुपित सपं
आवि की आवाज (सुर २, २३७)।
फुंटा बी [दे] केश-बन्ध (दे ६, ८४)।
फुद देखो फद = स्पन्द। फुदइ (से १५, ७७)।
फुममा } बी [दे] करीपाग्नि, वनकरडे
फुफुआ } की आग (पाम, दे ६, ८४, तहु
फुफुगा } ४५, जीव २, बृह १, कम्म १,
२२)।

फुफुमा बी [दे] १ करीपाग्नि, 'अहवा डण्ण
निहुय निहुमं फुफुम व चिरमेसो' (उप
७२८ टी)। २ कचवर-बहि, कूडा करकट
की भाग (सुख १, ८)।

फुंफुल } सक [दे] १ उत्थापन करना।
फुफुल } २ कहना। फुफुलइ (हे २, १७४)।
फुस सक [सृज्, प्र + उञ्ज्] पोखना,
साफ करना। फुसदि (प्राक ६३)।
फुसण देखो फासण (उप पु ३४)।

फुक अक [फून् + कृ] १ फुफकारना, फूँ
फूँ आवाज करना। २ सक मुँह से हवा
निकालना, फूँकना। फुकइ (पिंग)। वक.
-फुकत (गा १७६), फुकिजत (ध) (हे
४, ४२२)।

फुका बी [दे] १ मिया (दे ६, ८३)। २
फूँक (कुप्र १५०)।

फुकार पु [फूत्कार] फुफकार, फूँ फूँ की
आवाज (कुप्र ५८, सण)।

फुकिय वि [फूत्कृत] फुफकार हुआ (भाव
४)।

फुकी बी [दे] रजकी, घोविन (दे ६, ८४)।
फुगा बीन [दे स्फिच्] शरीर का अवयव-
विशेष, कटि-प्रोथ (सूत्रनि ७६)।

फुगाफुगा वि [दे] विकीणं रोमवाला,
परस्पर असवद्ध—विखरे हुए केशवाला, 'तस्स
भुमगाओ फुगाफुगाओ' (उवा)।

फुट } अक [स्फुट्, अश्] १ विकसना,
फुट्ट } खोलना। २ प्रकट होना। ३ फूटना,
फटना, टूटना। ४ नष्ट होना। फुटइ, फुट्टइ,
फुट्टइ, फुट्टउ (सप्त ३६, प्राक ६६, हे ४,
१७७, २३१, उव, अवि, पिंग, गा २२८)।
भवि 'फुट्टिस्सइ बोहित्थ महिलाजएकहियमत
वा' (धर्मवि १३), फुट्टिहिइ (पि ५२६)। वक.
फुटत, फुटमाण (परह १, ३, गा २०४,
सुर ४, १५१, णायो १, १—पत्र ३६)।

फुट्ट वि [स्फुटित, अष्ट] १ फूटा हुआ, टूटा
हुआ, विदीर्ण (उप ७२८ टी, सम्मत्त १४५,
सुर २, ६०, ३, २४३, १३, २१०)। २
अष्ट, पतित (कुमा)। ३ विनष्ट, 'फुट्टहडा-
हडसोसं' (णायो १, १६, विपा १, १)।

फुट्टण न [स्फुटन] १ फूटना टूटना (कुप्र
४१७)। २ वि फूटनेवाला, विदीर्ण होनेवाला
(हे ४, ४२२)।

फुट्टिअ वि [स्फुटित] विदारित, 'फुट्टिअमोहो'
(कुमा ७, ६४)।

फुट्टिर वि [स्फुटिट्] फूटनेवाला (सण)।

फुट्ट देखो फुट्ट = स्पष्ट (पि ३११)।
फुड देखो फुट्ट = स्पष्ट, अश्। फुडइ (हे ४,
१७७, २३१, प्राक ६६), 'फुडति सव्वग-
संघोओ' (उप ७२८ टी)। वक. फुडमाण
(सुर ३, २४३)।

फुड देखो फुट्ट = स्पष्ट (परह ३६, ठा ७—
पत्र ३८३, जीवस २००, भा)।

फुड वि [स्फुट] स्पष्ट, व्यक्त, साफ, विशद
(पाम, हे ४, २५८, उवा)।

फुडण न [स्फुटन] टूटना, खरिखत होना
(परह १, १—पत्र २३)।

फुडा बी [स्फुटा] अतिकाय-नामक महोरगेन्द्र
की एक पटरानी, इन्द्राणी-विशेष (ठा ४,
१, इक)।

फुडा बी [फटा] सांप को फन, 'वनकडफु-
अकुडिलअडिलककसवियडफुडाडोवकरएदच्छ'
(उवा)।

फुडिअ वि [स्फुटित] १ विकसित, खिला
हुआ (पाम, गा ३६०)। २ फूटा हुआ,
विदीर्ण (स ३८१)। ३ विकृत (परह १,
२—पत्र ४०)।

फुडिअ (अप) देखो फुरिअ (भवि)।
फुडिआ बी [स्फोटिआ] छोटा फोड,
फुनवी (सुपा १३८)।

फुडु देखो फुट्ट। फुडुइ (पड्)।
फुन वि [दे स्पृष्ट] छूना हुआ (पत्र १५८
टी, कम्म ५, ८५ टी)।

फुफुस न [दे] उदरवर्ती अन्व-विशेष,
फेफडा (सूत्रनि ७३, पउम २६, ५४)।

फुम सक [अम] अमण करना। फुमइ
(हे ४, ४६१)। प्रयो. फुमावइ (कुमा)।

फुम सक [दे फूत् + कृ] फूँक मारना,
मुँह से हवा करना। फुमेजा (वस ४, १०)।
वक. फुमत (वस ४, १०)। प्रयो. फुमावेजा
(वस ४, १०)।

फुर अक [स्फुर] १ फरकना, हिलना।
२ तडफटना। ३ विकसना, खोलना। ४
प्रकाशित होना, प्रकट होना। 'फुरइ म
सोताइ तक्खण वामच्छ' (से १५, ७६,
पिंग)। वक. फुरत, फुरमाण (गा १६२,
सुर २, २२८, महा, पिंग, से ६, २५, १२,
२६)। सक्क फुरित्ता (ठा ७)।

फुर सक [अप + हृ] अपहरण करना,
खीनना। प्रयो. फुरावित्ति (वव ३)।

फुर पु [स्फुर] शन्न-विशेष, फुरफनगावरण-
गहिय— (परह १, ३—पत्र ६६)।

फुर (अप) देखो फुड = स्फुट (पिंग)।

फुरण न [स्फुरण] १ फरकना, कुछ हिलना,
'इपत्त कम्मन 'ज पुण अन्दिक्फुरण मह ठोही
भारिया तेण' (सुर १३, १२७)। २ स्फूर्ति
(सुपा ६, वजा ३४, सम्मत्त १६१)।

बोडघेर न [दे] गुल्म-विषे (पाअ) ।
 बोडिय पु [बोटि ६] १ दिग्म्वर जैन सप्र-
 दाय । २ वि दिग्म्वर जैन सप्रदाय का
 अनुयायी, 'बोडियसिवभूईओ बोडियलिगस्स
 होइ उप्पत्ती' (विसे १०४१, २५५२) ।
 बोडिय वि [दे] मुण्डित-मस्तक (?),
 'बोडियमसिए धुव मरण' (श्रोधभा ८३ टी) ।
 बोडूर न [दे] रमश्रु, दाढी-मूँछ (दे ६, ६५) ।
 बोड्डुआ स्त्री [दे] कपर्दिका, कौडी, 'केसरि
 न लहइ बोड्डुअवि गय लक्खेति धेप्पति' (हे
 ४, ३३५) ।
 बोदर वि [दे] पृथु, विशाल (दे ६, ६६) ।
 बोदि देखो बोदि (श्रौप) ।
 बोदह [दे] देखो बोदरह (पाअ) ।
 बोद्व वि [बौद्व] बुद्ध-भक्त (सवोध ३४) ।
 बोद्वव देखो बुज्ज ।
 बोद्वह वि [दे] तरुण, जवान (दे ७, ८०) ।
 बोधण न [बोधन] बोध, शिक्षा, उपदेश
 (सम ११६) ।
 बोधव्व देखो बुज्ज ।
 बोधि देखो बोहि (ठा २, १—पत्र ४६) ।
 °सत्त पु [°सत्त्व] सम्यग् दर्शन को प्राप्त
 प्राणी, अर्हन् देव का भक्त जीव (मोह ३) ।
 बोधिअ वि [बोधित] ज्ञापित, अवगमित
 (धर्मस ५०६) ।
 बोध्वड वि [दे] मूक (दश० अगस्त्य चू०
 पत्र० २४३) ।
 बोर न [वदर] फल-विशेष, वेर (गा २००,
 हे १७०, षड, कुमा) ।
 बोरी स्त्री [वदरी] वेर का गाछ (प्राक्क ४, हे
 १, १७०, कुमा, हेका २५६) ।
 बोल सक [बोडय्] बुवाना, 'तबोली त
 बोलइ जिणवसहिट्टिएण जेए सद्धो' (साधं
 ११४), 'बुद्धत बोलए अन्न' (सूक्त ६६),
 बोलेइ, बोलए (सवोध १३), 'केसि च वचित्तु
 गले सिलाओ उदगसि बोलति महालयसि'
 (सूत्र १, ५, १०), बोलेमि (सिरि १३८) ।
 'गुत्तामेण लोए बोलेइ वहु' (उवर १५२) ।

बोल अक [व्यति + क्रम्] १ पसार होना,
 गुजरना । २ सक उल्लघन करना, 'दूई ए
 एइ, चदोवि उगगओ, जामिणोवि बोलेइ' (गा
 ८५४), 'पुणो त वधेण न बोलइ कयाइ'
 (श्रावक ३३) । बोलए (चड) । देखो
 बोल = गम ।
 बोल पु [दे] १ कलकल, कोलाहल (दे ६,
 ६०, भग, भवि, कप्प, उप उप ५०६),
 'हासबोलवहुला' (श्रौप) । २ समूह, 'कमढा-
 सुरेण रइयम्मि भीसणे पलयतुल्लजलवोले'
 (भाव १, कुलक ३४) ।
 बोल्लग पुन [दे ब्रोड] १ मज्जन, झुवना ।
 २ कर्पण, खीचाव, 'उच्चूल बोलग पज्जेति'
 (विपा १, ६—पत्र ६८) ।
 बोल्लिअ वि [ब्रोडित] डुवाया हुआ (वज्जा
 ६८) ।
 बोल्लिदी स्त्री [दे] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि
 का एक भेद, 'माहेसरीलिनी दामिलिनी बोल्लि-
 दिनी' (सम ३५) ।
 बोल्ल सक [कथय्] बोलना, कहना । बोल्लड
 (हे ४, २ प्राक्क ११६, सुर ८, १६७,
 भवि) । कर्म बोल्लिअइ (अप) (कुमा) ।
 छ. बोल्लेवय (अप) (कुमा) । प्रयो बोल्ल-
 वइ (कुमा) ।
 बोल्लअ पु [कथन] बोल, वचन (गा ६०३) ।
 बोल्लणअ वि [कथयित्] बोलने का स्वभाव-
 वाला (हे ४, ४४३) ।
 बोल्ला स्त्री [कथा] वार्ता, बात, 'नीयबोल्लाए'
 (उप १०१५) ।
 बोल्लाविय वि [कथित] बुलवाया हुआ (स
 ४६१, ६६६) ।
 बोल्लिअ वि [कथित] १ उक्त । २ न उक्ति
 (भवि, हे ४, ३८३) ।
 बोव्व न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६६) ।
 बोह सक [बोधय्] १ समझाना, ज्ञान
 कराना । २ जगाना । बोहेइ (उव) । कर्म
 बोहिज्जइ (उव) । वक्क बोहिंत, बोहेंत
 (सुर १५, २४६, महा) । कवक्क. बोहिज्जत
 (सुर २, १४५, ८, १६५) । हेक्क बोहेउ
 (अज्ज १७६) ।

बोह पुं [बोध] १ ज्ञान, समझ (जी १) ।
 २ जागरण (कुमा) ।
 बोहग देखो बोहय (द १) ।
 बोहण देखो बोधण (उप २०६, सुर १, ३७;
 उवर १) ।
 बोहय वि [बोधक] बोध देनेवाला, ज्ञान-
 दाता (सम १, गाय्या १, १, भग, कप्प) ।
 बोहहर पु [दे] मागध, स्तुति-पाठक (दे ६,
 ६७) ।
 बोहारी स्त्री [दे] ब्रह्मारी, समाजनों, भाइ
 (दे ६, ६७) ।
 बोहि स्त्री [बोधि] १ शुद्ध धर्म का लाभ,
 सद्धर्म की प्राप्ति, 'दुल्लहा बोही' (उत्त ३६,
 २५८), 'बोही जिणेहि भणिया भवतरे सुद्ध-
 धम्मसपत्ती' (चैइय ३३२, सवोध १४, सम
 ११६, उप ४८१ टी) । २ अहिंसा, अनुकम्पा,
 दया (परह २, १) । देखो बोधि ।
 बोहिअ वि [बोधित] १ ज्ञापित, समझाया
 हुआ (भग) । २ विकासित, विबोधित, 'रवि-
 किरणतरुणबोहियसहस्रसपत्त—' (कप्प) ।
 बोहिअ पु [बोधिक] मनुष्य चुरानेवाला
 चोर (निच्च १, चैइय ४४६) ।
 बोहित देखो बोह = बोधय् ।
 बोहिग देखो बोहिअ = बोधिक (राज) ।
 बोहित्थ पुन [दे] प्रवहण, जहाज, यानपात्र,
 नौका (दे ६, ६६, स २०६, चैइय २६४,
 कुप्र २२२, सिरि ३८३, सम्मत १५७,
 सुपा ६४, भवि) ।
 बोहित्थिय वि [दे] प्रवहण-स्थित (वज्जा
 १५८) ।
 °भंस देखो भस (सुपा ५०६) ।
 °भमर देखो भमर (नाट—मुद्रा ३६) ।
 °भमास देखो अब्भास, 'किनु अइइहवा सा
 विट्ठिन्भासेवि कुणइ न हुकोइ' (सुपा ५६७) ।
 °ब्भि वि [भिन्] भेदन करनेवाला, नाश-
 कर्ता, 'सगडब्भि' (आचा १, ३, ४, १) ।
 ब्रो (अप) देखो बू । बोहि (प्राक्क १२१) ।

फोफस } न [दे] देखो फिफिस, फोफम } फुफुम (राज, तडु ३६) ।

फेरण न [त्र] फेरना, घुमाना, 'घु फणफेरण-सुकारएहि' (सुर २, ८) ।

फेल सा [शिव्प] १ फॅनना । २ दूर करणा । फेनरि (शौ) (नाट) । सक्र. फेलिअ (नाट) ।

फेला छी [दे] झूठन-झूठन, झूठन, भोजन से बचा खुवा, उचिञ्चट्ठ ।

'तम्स य ग्रणुः पाए देवी
दासी य तम्मि कूवम्मि ।

निच खिवति फेल तीए

सो जियइ सुणुज्ज्व ।'

'दुग्गवसूववासो गम्भो,
जणणीइ चावियरसेहि ।

ज गम्भोसए पुण त फेलाहारसकास ।'
(धम्मि १४६) ।

फेलाया छी [दे] मातुलानी, मामी (दे ६, ८५) ।

फेळ पु [दे] बरिद, निर्धन (दे ६, ८५) ।

फेळुस सक [दे] फिसलना, खिसकना, खिसककर गिरना । फेळुसइ (दे ६, ८६) । सक्र फेळुसिऊण (दे ६, ८६, स ३५५) ।

फेळुराण न [दे] १ फिसलन, पतन । २ पिच्छिल जमीन, वह जगह जहाँ पर्व फिमल पडे (दे ६, ८६) ।

फेल्हसण देखो फेळुसण (वव ४ टी) ।

फेस पु [दे] १ त्रास, डर । २ सद्भाव (दे ६, ८७) ।

फोअ पुं [दे] उद्गम (दे ६, ८६) ।

फोइअय वि [दे] १ मुक्त । २ विस्तारित (दे ६, ८७) ।

फौफा छी [दे] डराने की आवाज, भयोत्पादक शब्द (दे ६, ८६) ।

फोड सक [स्फोटय] १ फोडना, विदारण करना । २ राई आदि से शाक आदि को बघारना । फोडेज (कुप्र ६७) । वक्र फोडेन, फोडेमाण (मुपा २०१, ५६३ औप) ।

फोड पु [स्फोट] १ फोडा, ब्रण विशेष (ठा १०—पत्र ५२०) । २ बर्ण-विशेष, शब्द-भेद (राज) । ३ वि भलक, बहुफोडो' (श्रोघभा १६१) ।

फोडअ (शौ) पु [स्फोटक] ऊपर देखो (प्राक ८६) ।

फोडण न [स्फोटन] १ विदारण (पत्र ६ टी, गउड) । २ राई आदि से शाक आदि को बघारना (पिंड २५०) । ३ राई आदि सस्कारक पदार्थ (पिंड २५५) । ४ वि फोडनेवाला, विदारण करनेवाला, 'कायर-जणहियफोडण' (राया १, ८), 'अम्ह मअणसराहअहिअअवणफाडण गौअ' (गा ३८१) ।

फोडव देखो फोडअ (पत्र ६३, २६) ।

फोडाव सकें [स्फोटय] १ फोडवाना । तोडवाना । २ खुलवाना । सक्र फोडाविऊण (स ४६०) ।

फोडाविय वि [स्फोटित] १ तोडवाया हुआ । २ खुलवाया हुआ, 'फोडाविया सपुडा' (स ४६०) ।

फोडि छी [स्फोटि] विदारण, भेदन, 'भाडो-फोडोसु वजए कम्म' (पडि) । 'कम्म न [कर्मन] १ जमीन आदि का विदारण करने का काम, हल आदि से भूमि-दारण, कूप, तडाग आदि खोदने का काम । २ उक्त काम कर आजोविका चलाना (पडि) ।

फोडिअ वि [स्फोटित] १ फोडा हुआ, विदारित (राया १, ७, स ४७२) । २ राई आदि से बघारा हुआ (वव १) ।

फोडिअय वि [दे स्फोटित, °क] राई से बघारा हुआ शाकादि (दे ६, ८८) ।

फोडिअय न [दे] रात के समय जगल में सिंहादि से रजा का एक प्रकार (दे ६, ८८) ।

फोडिया छी [स्फोटिका] छोटा फोडा (उप ७६८ टी) ।

फोडो छी [स्फोटी, स्फौटी] देखो फोडि (उवा, पत्र ६, पडि) ।

फोफस न [दे] शरीर का अवयव विशेष, 'कालिञ्जयअतपित्तजरहियफोफसफेफसपि-लिहोदर—' (तडु ३६) ।

फोफल न [दे] गन्ध द्रव्य विशेष, एक प्रकार की श्रोपधि, 'महुरविरेयणमेसो कायव्णो फोफलाइव्वेहि' (सत्त ४२) ।

फोफस देखो फोफस (पएह १, १—पत्र ८) ।

फोरण न [स्फोरण] निरन्तर प्रवर्तन, 'विसयम्मि अपत्तेवि हु एणिसत्तिप्फोरणेष फलसिद्धी' (उवर ७४) ।

फोरविअ वि [स्फोरित] निरन्तर प्रवृत्त किया हुआ, 'तेहिपि नियनियसती फोरवीया' (सम्मत्त २२७, हम्मोर १४) ।

फोस देखो फुस = स्पृश, 'सव्व फोसति जगं' (जीवस १६६) ।

फोस पु [दे] उद्गम (दे ६, ८६) ।

फोस पु [दे पोस] अपान-देग, गुदा (तडु २०) ।

फोसणा छी [स्पर्शना] स्पर्श-क्रिया (जीवस १६६) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महणवे फअाराइसद्मकलणो
अट्टावीसइमो तरगो समत्तो ॥

भंजाविअ } वि [भञ्जित्] १ भँगाया हुआ,
भञ्जिअ } तुडवाया हुआ, (स १४०) । २

भगाया हुआ (पिग) । ३ आक्रान्त (तदु ३८) ।

भञ्जिअ देखो भग्ग = भग्ग (कुमा ६, ७०, पिग, भवि) ।

भड सक [भाण्डय्] भंडारा करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना । भडेइ (सुख २, ४५) ।

भड सक [भण्ड्] भांडना, भर्त्सना करना, गाली देना । भडइ (सण) । वक्क

भडत (गा ३७६) । सक्क भंडिउ (वव १) ।

भड पु [भण्ड] १ विट्, भड् भ्रा (पव ३८) । २ भांड, बहुलपिया, मुख आदि के विकार से हँसाने का काम करनेवाला, निर्लज्ज (आव २) ।

भड न [दे] १ वृत्ताक वैगन, भटा (दे ६, १००) । २ पु मागघ, स्तुति-पाठक । ३ सखा, मित्र । ४ दौहित्र, पुत्री का पुत्र (दे ६, १०६) । ५ पुन मरडन, आभूषण, गहना (दे ६, १०६, भग, श्रौप) । ६ वि.

ङ्गिन, पूर्वा, सिर-कटा (दे ६, १०६) । ७ न धुर, छुरा । ८ छुरे से मुण्डन (राज) ।

भड १ पुन [भाण्ड] १ वरतन, वासन, पात्र, भडग १ 'दुग्गइद्दुग्गभडे धडइ अक्खडे' (संवेग १४, दे ३, २१, आ २७, सुपा १६६) ।

२ ऋयाणक, पराय, वेचने की वस्तु (आया १, १—पत्र ६०, श्रौप, परह १, १, उवा. कुमा) । ३ गृह, स्थान (जीव ३) । ४ वज्र-पात्र आदि घर का उपकरण (ठा ३, १, कप्प, श्रौघ ६६६, आया १, ५) ।

भडण न [दे भण्डन] १ कलह, वाक्-कलह, गाली-प्रदान (दे ६, १०१, उव, महा, आया १, १६—पत्र २१३, श्रौघ २१४, गा ६६६, उप ३३६, तदु ५०) ।

२ क्लोष, गुस्सा (सम ७१) ।

भडणा छो [भण्डना] भांडना, गाली-प्रदान (उप ३३६) ।

भडय देखो भड = भण्ड (हे ४, ४२२) ।

भडय देखो भडग, 'पायसघयदहियाण भरिज्जण भडए गहए' (महा ८०, २४, उत २६, ८) ।

भडवेआलिअ वि [भाण्डवैचारिक] करि-याना वेचनेवाला (आणु १४६) ।

भडा छो [दे] सम्बोधन-सूचक शब्द (सखि ४७) ।

भडाआर १ पुं [भाण्डागार] भंडार, कोठा भडागार १ या कोठार, बखार (मुदा १४१, स १७२, सुपा २२१, २६) ।

भडागारि १ पुं [भाण्डागारिन्, क] भडागारिअ १ भडारी, भडार का अध्यक्ष (आया १, ८, कुप्र १०८) । छो. 'रिणी

(आया १, ८) ।

भडार देखो भंडागार (महा) ।

भडार पु [भाण्डकार] वर्तन वनानेवाला शिल्पी (राज) ।

भडारि १ देखो भडागारि (स २०७, सुर भडारिअ) ४, ६०) ।

भडिअ पु [भाण्डिक] भडारी, भडार का अध्यक्ष (सुख २, ४५) ।

भडिआ छो [भाण्डिका] स्थाली, थलिया (ठा ८—पत्र ४१७) ।

भडिआ १ छो [दे] १ गत्री, गाडी (बृह ३, भडी ३, १०६, आवम, निचू ३, वव ६) । २ शिरोष वृक्ष । ३ अटवी, जगल । ४ असती, कुलटा (दे ६, १०६) ।

भडीरी पु [भण्डीर] वृक्ष-विशेष, शिरोष वृक्ष (कुमा) । 'वडिसय, वडैसय न [वतसक] मथुरा नगरी का एक उद्यान, 'महुराप एयरीए भडि (? डोर)वडैसए उज्जारणे' (राज, आया २—पत्र २५३) । 'वण न [वन] १ मथुरा का एक वन (ती ७) । २ मथुरा का एक चैत्य (आवम) ।

भडु न [दे] मुण्डन (दे ६, १००) ।

भडुल्ल देखो भड = भाण्ड (भवि) ।

भत वि [भ्रान्त] १ ध्रुमा हुआ, 'भतो जतो भेईणी (ए)' (पजम ३०, ६८) । २ भ्रान्ति-युक्त, भ्रमवाला, भूला हुआ (दे १, २१) । ३ अपेत, अनवस्थित (विसे ३४४८) । ४ पु प्रथम नरक का तीसरा नरकेन्द्रक—नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र ३) ।

भत वि [भगवत्] भगवान्, ऐश्वर्य-शाली (ठा ३, १, भग, विसे ३४४८—३४५६) ।

भत वि [भदन्त] १ कल्याण-कारक । २ सुख-कारक । ३ पूज्य (विसे ३४३६, कप्प, विपा १, १, कस, विसे ३४७४) ।

भत वि [भजत्] सेवा करता (विसे ३४४६) ।

भत वि [भान्, भ्राजत्] चमकता, प्रकाशता (विसे ३४४७) ।

भत वि [भवान्त] भव का—ससार का श्रुत करनेवाला, मुक्ति का कारण (विसे ३४४६) ।

भत वि [भयान्त] भय-नाशक (विसे ३४४६) ।

भति छो [भ्रान्ति] भ्रम मिथ्या ज्ञान (धर्मसं ७२१, ७२३, सुपा ३१२, भवि) ।

भति (अप) छो [भक्ति] भक्ति, प्रकार (पिग) ।

भभल वि [दे] १ अप्रिय, गानपट (दे ६, ११०) । २ मूर्ख, अज्ञान, पागल, वेवकूफ (दे ६, ११०, सुर ८, १६) ।

भंभसार पुं [भम्भसार] भगवान् महावीर के समकालीन और उनके परम भक्त एक मगधाधिपति, ये श्रैणिक और विम्बसार के नाम से भी प्रसिद्ध थे (आया १, १३-श्रौप) । देखो भिभसार, भिभसार ।

भभा छो [दे. भम्भा] १ वाद्य-विशेष, भेरी (दे ६ १००, आया १, १७, विसे ७८ टी, सुर ३, ६६, सम्मत १०६, राय, भग ७, ६) । २ 'भो' 'भा' की आवाज (भग ७, ६—पत्र ३०५) ।

भभी छो [दे] १ असती, कुलटा (दे ६, ६६) । २ नीति विशेष (राज) ।

भंस अक [भ्रश्] १ नीचे गिरना । २ नष्ट होना । ३ स्वल्पित होना । भसइ (हे ४, १७७) ।

भंस पु [भ्रश] १ स्वल्पना । २ विनाश (सुपा ११३, सुर ४, २३०), 'सपाडइ सपयाभस' (कुप्र ४१) ।

भसग वि [अ शक] विनाशक (वव १) ।

भसण न [अ शान्] ऊपर देखो, 'को एण उवाओ जिणधम्म-भसणे होज्ज एईए' (सुपा ११३, सुर ४, १५) ।

भसणा छो [अ शाना] ऊपर देखो (परह २, ४ श्रावक ६५) ।

भक्ख सक [भक्ष्य्] भक्षण करना, खाना । भक्खेइ (महा) । कर्म, भविखज्जइ (कुमा) । वक्क भक्खत (स १०२) । हेक्क भक्खिखद्धं (महा) । क्क भक्ख, भक्खेय, भक्खणिज्ज

वंधणया लो [वन्धन] वधन (भग) ।
वंधणी लो [वन्धनी] विद्या-विशेष (पउम
७, १४१) ।

वधय देखो वधग (एदि ४२) ।

वंधव पु [वान्धव] १ भाई, भ्राता । २ मित्र, वयस्य दोस्त । ३ नातेदार, सबधी, नतेत । ४ माता । ५ पिता । ६ माता-पिता का सम्बन्धी मामा, चाचा आदि (हे १, ३०, प्रासू ७६, उत्त १८, १४) ।

वंधाप (अशो) सक [वन्धय] ढँवाना, बँधवाना । वधापयति (पि ७) ।

वधाधिअ वि [वन्धित] वँधाया हुआ (सुपा ३२५) ।

वधिअ देखो वद्ध (सूअ १, २, १, १८, धर्मवि २३) ।

वधु पुं [वन्धु] १ भाई, भ्राता । २ माता । ३ पिता । ४ मित्र, दोस्त । ५ स्वजन, नातेदार, नतेत (कुमा, महा, प्रासू १०८, सुपा १६८, २४१) । ६ छन्द विशेष (पिंग) । °जीव पु [°जीव] वृक्ष-विशेष, दुपहरिया का पेड़ (स्वप्न ६६, कुमा) । °जीवग पुं [°जीवक] वही अर्थ (आया १, १, कप्प, भग) । °दत्त पु [°दत्त] १ एक श्लेष्ठी का नाम (महा) । २ एक जैन मुनि का नाम (राज) । °भई, °वई ली [°मती] १ भगवान् मल्लिनाथ की मुख्य साध्वी का नाम (आया १, ८, पव ६, सम १५२) । २ स्वनाम-ख्यात ली-विशेष (महा, राज) । °सिरी ली [°श्री] श्रीदाम राजा की पत्नी (विपा १, ६) ।

वंधुर वि [वन्धुर] १ सुन्दर, रम्य (पाप्र) । २ नन्न, अन्नत (गउड २०५) ।

वधुरिय वि [वन्धुरिय] १ पिंडीकृत (गउड ३८३) । २ नत्रीभूत, नमा हुआ (गउड ५५६) । ३ मुकुटित, मुकुटयुक्त । ४ विभूयित (गउड ५३३) ।

वधुल पु [वन्धुल] वेस्या-पुत्र, असती-पुत्र (मुच्छ २००) ।

वंधय पु [वन्धय] वृक्ष-विशेष, दुपहरिया का पेड़ (स ३१२) ।

वंधोल पु [दे] भेलक, भेल, सगति (दे ६, ८६, पड) ।

वभ पु [ब्रह्मन्] १ ब्रह्मा विधाता (उप १०३१ टी, दे ६, २२, कुप्र २०३) । २ भगवान् शान्तिनाथ का शासनाधिष्ठायक यक्ष (सति ७) । ३ अक्राय का अधिष्ठायक देव (ठा ५, १—पत्र २६२) । ४ पाचवें देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ५ बारहवें त्रलुवर्ती का पिता (सम १५२) । ६ द्वितीय बलदेव और वासुदेव का पिता (सम १५२, ठा ६—पत्र ४४७) । ७ ज्योतिष-शास्त्र प्रसिद्ध एक योग (पउम १७, १०) । ८ ब्राह्मण, विप्र (कुलक ३१) । ९ चक्रवर्ती राजा का एक देव-कृत प्रासाद (उत्त १३, १३) । १० दिन का नववा मुहूर्त (सम ५१) । ११ छन्द-विशेष (पिंग) । १२ ईपत्तगभारा पृथिवी (सम २२) । १३ एक जैन मुनि का नाम (कप्प) । १४ पुन एक विमानावास, देव-विमान विशेष (देवेन्द्र १३१, १३४, सम १६) । १५ मोक्ष, अपवर्ग (सूअ २, ६, २०) । १६ ब्रह्मचर्य (सम १८, शोधभा २) । १७ सत्य अनुष्ठान (सूअ २, ५, १) । १८ निर्विकल्प सुख (आचा १, ३, १, २) । १९ योगशास्त्र-प्रसिद्ध दशम द्वार (कुमा) । °कत न [°कान्त] एक देव-विमान (सम १६) । °कूड पु [°कूट] १ महाविदेह वर्ष का एक वक्षस्कार पर्वत (ज ४) । २ न एक देव-विमान (सम १६) । °चरण न [°चरण] ब्रह्मचर्य (कुप्र १६१) । °चारि वि [°चारिन्] १ ब्रह्मचर्य पालन करनेवाला (आया १, १, उवा) । २ पु भगवान् पारव नाथ का एक गणधर—प्रमुख मुनि (ठा ८—पत्र ४२६) । °चेर, °चोर न [°चर्य] १ मैथुन-विरति (आचा, पएह २, ४, हे २, ७४, कुमा, भग, स ११, उा प्र ३४३) । २ जिनैन्द्र-शासन, जिन प्रवचन (सूअ २, ५, १) । °अभय न [°अभय] एक देव विमान (सम १६) । °दत्त पु [°दत्त] भारतवर्ष में उत्पन्न बारहवा चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४, सम १५२, उव) । °दीव पु [°दीप] द्वीप-विशेष (राज) । °दीविया ली [°दीपिया] जैन-मुनि गण की एक शाखा (कप्प) । °पभ

न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम १६) । °भुइ पुं [°भूति] एक राजा, द्वितीय वासु-देव का पिता (पउम २०, १८२) । °चारि देखो °चारि (आया १, १, सम १३, कप्प, सुपा २७१, महा, राज) । ली °णी (आया १, १४) । °रुइ पु [°रुचि] स्वनाम-प्रसिद्ध एक ब्राह्मण, नारद का पिता (पउम ११, ५२) । °लेस न [°लेस्य] एक देव-विमान (सम १६) । °लोअ, लोण पु [°लोअ] एक स्वर्ग, पांचवें देवलोक (भग, धनु, सम १३) । °लोगअडिसय न [°लोकअडिसय] एक देव-विमान (सम १७) । °व, °वत वि [°वत्] ब्रह्मचर्यवाला (आचा) । °वडिसय पु [°वितसक] सिद्ध-शिला, ईपत्तगभारा पृथिवी (सम २२) । °वण न [°वण] एक देव-विमान (सम १६) । °वय न [°वत] ब्रह्मचर्य (आया १, १) । °मि वि [°वित्] ब्रह्म का जानकार (आचा) । °वय देखो °वग (स ५६, प्रासू १५६) । °सति पु [°शान्ति] भगवान् महावीर का शासन-यक्ष (गण ११, ती १५) । °सिंग न [°शुङ्ग] एक देव-विमान (सम १६) । °सिट्ट न [°सुट्ट] एक देव-विमान (सम १६) । °सुत्त न [°सुत्त] उपवीत, यज्ञो-पवीत (मोह ३०, सुल २, १३) । °हिअ पुं [°हित] एक विमानावास, देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र १३४) । °वत्त न [°वत्त] एक देव-विमान (सम १६) । देखो वभाण वग्ह ।

वभड न [ब्रह्माण्ड] जगत, ससार (गउड कुप्र ४, सुपा ३६८, ५६३) ।

वभण पु [ब्राह्मण] ब्राह्मण, विप्र (स २६, सुर २, १३०, मुपा १६८, हे ४, २८, महा) ।

वभणिआ लो [ब्राह्मणिआ] पञ्चेन्द्रि-जन्तु-विशेष (पुष्प २६७) ।

वभणिआ } ली [द्वि. ब्राह्मणिआ] नी
वभणी } विशेष (दे ६, ६०, पाप्र, दे ६३, ७५) ।

वभणग } ली [व्रह्मण्य, ब्राह्मण्य, °
वभणग } ग्राह्य का हित । २ ग्राह्य सन्धी । ३ न ग्राह्य-सम्पूह । ४ ग्राह्य

भट्ट (शौ) देखो भट्टारय (प्राक् ६५) ।
 भट्ट वि [भट्ट] १ नीचे गिरा हुआ । २ च्युत, स्वलित (महा, ३ ४३) । ३ नष्ट (सुर ४, २१५, छाया १, ६) ।
 भट्ट पुन [भट्ट] भर्जन-पात्र, धुनने का बर्तन (दे ५, २०), 'भट्टद्वियचणगो विव सयणीए कीस तडफडसि' (सुर ३, १४८) ।
 भट्टि १ स्त्री [दे] ब्रूलि-रहित मांगं (श्रीध भट्टि) २३, २४ टी, भग ७, ६ टी—पत्र ३०७) ।
 भट्ट पु [भट्ट] १ योद्धा, लडाका (कुमा) । शूर, वीर (से ३, ६, छाया १, १) । ३ म्लेच्छो की एक जाति । ४ वर्ण-संकर जाति-विशेष, एक नीच मनुष्य-जाति । ५ राक्षस (हे १, १६५) । ६ 'इइआ स्त्री [स्त्रादिता] दीक्षा-विशेष (ठा ४, ४) ।
 भट्टक पुत्री [दे] आठम्बर, तडक-भट्टक, टीम-टाम, ठाठमाठ (सद्दि ४४ टी) । स्त्री 'का (उव) ।
 भट्टग पु [भट्ट] १ अनार्य देश विशेष । २ उस देश मे रहनेवाली एक म्लेच्छ-जाति (परह १, १—पत्र १४, इक) । देखो भट्ट ।
 भट्टारय (अप) देखो भट्टारय (भवि) ।
 भट्टित्त न [भट्टि] शूल-मक्क मासादि, कवाव (स २६२, कुम ४३२) ।
 भट्टिल वि [दे] सवोधन-सूचक शब्द (सस्ति ४७) ।
 भण सक [भण] कहना, बोलना, प्रतिपादन करना । भणइ, भणोइ (हे ४, २३६, कुमा) । कर्म भणइइ, भणएए, भणिज्जई (पि ५४८, पड, पिंग) । भूका, भणीअ (कुमा) । भवि, भणहि, भणिस्स (कुमा) । वक्क भणत, भणमाण, भणेमाण (कुमा, महा, सुर १०, ११४) । कवक्क भणणत, भणिज्जत, भणिज्जमाण, भणीअत, भणमाण (कुमा, पि ५४८, गा १४५) । सक, भणिअ, भणिअ, भणिअण (कुमा, पि ३४६) । इक्क भणिअ, भणिअ (पत्र ६४, १३, प ५७६) । क भणिअव्व, भणेयव्व (जि ३८, सुपा ६०८) । कवक्क, भज्जत, भज्जमाण (सुर २, १६१, उप प २३, उप १०३१ टी) ।

भणग वि [भण, °क] प्रतिपादन करनेवाला (एदि) ।
 भणण न [भणण] कथन, उक्ति (उप ५५३, सुपा २८३, सबोध ३) ।
 भणाविअ वि [भाणित] कहलाया हुआ (सुपा ३५८) ।
 भणिअ वि [भणित] कथित (भग) ।
 भणिइ स्त्री [भणिति] उक्ति, वचन (सुर ६, १४५, सुपा २१४, धर्मवि ५८) ।
 भणिर वि [भणित्] कहनेवाला, वक्ता (गा २६७, कुमा, सुर ११, २४४, आ १६) । स्त्री 'री (कुमा) ।
 भणेमाण देखो भण ।
 भणण सक [भण] कहना, बोलना । भणणइ (धात्वा १४७) ।
 भणणमाण देखो भण = भण् ।
 भत्त पुन [भक्त] १ आहार, भोजन । २ अन्न, नाज (विपा १, १, ठा २, ४, महा) । ३ श्रोतन, मात (प्रामा) । ४ लगातार सात दिनों का उपवास (सबोध ५८) । ५ वि भक्ति-युक्त, भक्तिमान्, 'सा सुलसा बालप्यमिति चेव हरिणोगमेलीभक्तया यावि होत्या' (अत ७, उप प ६६, महा, पिंग) । 'कहा स्त्री [कथा] आहार-कथा, भोजन-संबन्धी बातों (ठा ४, ४) । 'नछद, छद पु [च्छद] रोग-विशेष, भोजन की अशुचि, 'कच्छू जरो खासो सासो भत्तच्छदो अक्खिदुक्ख' (महा, महा—टि) । 'पञ्चक्खाण न [प्रत्याख्यान] आहार-त्याग रूप अनशन, अनशन का एक भेद, मरण का एक प्रकार (ठा २, ४—पत्र ६४, औप ३०, २) । 'परिणणा, परिण्णा स्त्री [परिण्णा] १ वही पूर्वोक्त अर्थ (भत्त १६६, १०, पव १५७) । २ अर्थ-विशेष (भत्त १) । 'पाणय न [पानक] आहार-पानी, खान-पान (विपा १, १) । 'वेला स्त्री [वेला] भोजन-समय (विपा १, १) ।
 भत्त वि [भूत] उत्पन्न, सजात (हे ४, ६०) ।
 भत्ति देखो भत्तु (पिंग) ।
 भत्ति स्त्री [भक्ति] १ सेवा, विनय, आदर (छाया १, ८—पत्र १२२, उव, औप, प्रासू २६) । २ रचना (विते १६३१, औप,

सुपा ५२) । ३ एकाग्र-वृत्ति-विशेष (आव २) । ४ कल्पना, उपचार (धर्मस ७४२) । ५ प्रकार, भेद (ठा ६) । ६ विच्छित्ति-विशेष (शौप) । ७ अनुराग (धर्म १) । ८ विभाग । ९ अवयव । १० श्रद्धा (हे २, १५६) । 'मत, 'वत् वि [भत्] भक्तिवाला, भक्त (पत्र ६२, २८, उव, सुपा १६०, हे २, १५६, भवि) ।
 भत्तिज्ज पुं [भ्रातृव्य] भतीजा, भाई का पुत्र (सिरि ७१६, धर्मवि १२७) ।
 भत्ती नीचे देखो ।
 भत्तु पु [भर्तृ] १ स्वामी, पति, भतार (छाया १, १६—पत्र २०७), 'एववहु उव-रतभत्तुया' (छाया १, ६, पाअ, स्वप्न ५६) । २ अधिपति, अध्यक्ष । ३ राजा, नरेश । ४ वि पोषक, पोषण करनेवाला । ५ धारण करनेवाला (हे ३, ४४, ४५) । स्त्री—भत्ती (पिंग) ।
 भत्तोस न [भक्तोष] १ धुना हुआ अन्न (पचा ५, २६, प्रभा १५) । २ सुखादिका, खाद्य-विशेष (पव ३८) ।
 भत्थ पुत्री [दे] भाषा, क्षणीर, तरकस, 'अह आरोविचचावो पिट्ठे दढव्वभत्थओ अमओ' (धर्मवि १४६) ।
 भत्था स्त्री [भत्था] चमड़े की धौंकनी, भाषी (उप ३२० टी, धर्मवि १३०) ।
 भत्थिअ वि [भत्तिसेत] तिरस्कृत (सम्मत् १८६) ।
 भत्थी स्त्री [भत्थी] भाषी, चमड़े की धौंकनी, 'भत्थि व्व अनिलपुत्ता वियसियमुदर' (कुप २६६) ।
 भद सक [भद] १ सुख करना । २ कल्याण करना (विते ३४३६) । वक्क, भदत्त, नीचे देखो ।
 भदत्त वि [भदन्त] १ कल्याण-कारक । २ सुख कारक । ३ पूज्य, पूजनीय (विते ३४३६, ३४७४) ।
 भद न [दे] आमलक, आविला-फल-विशेष (दे ६, १००) ।
 भद १ न [भद्र] १ मंगल, कल्याण, 'भदं भदअ' मिच्छादसणसपूहमइअस्त अमय-सारस्व जिणवयणस्स भगवओ' (सम्मत्

वल्भासा स्त्री [दे] नदी-भेद, वह नदी जिसके पूर से गावित पानी मे धान्य आदि बोया जाता हो (राज)।

वल्भिभायण न [वाध्रव्यायन] गोत्र-विशेष (इक)।

बमाल पुं [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, ६०)।

बम्ह पुं [ब्रह्मन्] ? ज्योतिष्क देव-विशेष (डा २, ३—पत्र ७७)। २ देखो वभ (हे २, ७४, कुमा, गा ८१६, अच्यु १३, वजा २६, सम्मत्त ७७, हे १, ५६, २, ६३, ३, ५६)। °चरिअ देखो वंभ-चेर (हे २, ६३, १०७)। °तरु पु [°तरु] पलाश का पेड (कुमा)। °धमणी स्त्री [°धमनी] ब्रह्मनाडी (अच्यु ८४)।

बम्हज्ज (शौ) देखो वभण्ण (प्राक ८७)।

बम्हण देखो वभण (अच्यु १७, प्रयो ३७)।

बम्हणय देखो वंभणय (भग)।

बम्हहर [दे] देखो वभहर (पड्)।

बम्हाल पु [दे] अपस्मार, वायु-रोग-विशेष, मुगी रोग (पड्)।

बय पु [वक] ? पक्षि-विशेष, वयुला। २ कुवेर। ३ महादेव। ४ पुष्प-वृक्ष विशेष, मल्लिका का गाछ (आ २३)। ५ राक्षस-विशेष (आ २३)। ६ असुर-विशेष, वकासुर (वेणी १७७)।

बयाला देखो वा-याला (पव १६)।

बरठ पु [दे] धान्य-विशेष (पव १५४ टी)।

बरह न [वह] ? मयूर-पिच्छ (स ५००)। २ पत्र। ३ परिवार (प्राक २८)। देखो बारिह।

बरहि } पु [बर्हिन्] मयूर, मोर (प्राक, बरहिण } प्राक २८, पउम, २८, १२०, राया १, १, परह १, १, श्रौप)।

बरिह देखो बरह (हे २, १०४)। °हर पु [°धर] मयूर (पड्, प्राक २८)।

बरिहि } देखो बरहि (कप्पु, हे ४, ४२२)। बरिहिण }

बरुअ न [दे] वृण-विशेष, इधु-सदृश वृण (दे ५, १६, ६, ६१, प्राक)।

बरुड पुं [दे] शिल्पी-विशेष, चटाई बनाने-वाला शिल्पी (अणु १४६)।

बल अक [ज्वल] जलना, गुजराती मे 'वळ्जु'। बलति (हे ४, ४१६)।

बल अक [बल्] ? जीना। २ सक. खाना। बलइ (हे ४, २५६)।

बल सक [ग्रह्] ग्रहण करना। बलइ (पड्)। देखो बल = ग्रह्।

बल पु [बल] ? बलदेव, हलधर, वासुदेव का बडा भाई (पउम २०, ८४, प्राक)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ एक क्षत्रिय परिव्राजक (श्रौप)। ४ न. सामर्थ्य, पराक्रम (जी ४२, स्वज ४२, प्रासू ६३)। ५ शारीरिक पराक्रम, 'बलवीरियाण जयो मेओ' (अजक ६५)।

६ सैन्य, सेना (उत्त ६, ४, कुमा)। ७ बाद्य-विशेष, 'आसाढाहि बवेहि भोजा कज सापेंति' (सुज १०, १७)। ८ अप्रम तप, लगातार तीन दिनों का उपवास (सबोध ५८)। ९ पर्वत-विशेष का एक कूट—शिखर (डा ६)।

°च्छि वि [°च्छित्] ? बल का नाशक। २ न. जहर, विष (से २, ११)। °णु देखो °न्न (राज)। °देव पु [°देव] हली, वासुदेव का बडा भाई, राम (सम ७१, श्रौप)। °न्न वि [°ज्ञ] बल को जाननेवाला (प्राचा)।

°भद् पु [°भद्र] ? भरतसेन का मावी सातवां वासुदेव (सम १५४)। २ राजा भरत का एक प्रपौत्र (पउम ५, ३)। ३ एक विमानावास, देवविमान-विशेष (दिवेन्द्र १३३)। देखो हद्। °भाणु पुं [°भानु] राजा बलमित्र का भागिन्य (काल)। °महणा स्त्री [°मथनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)। °मित्र पु [°मित्र] इस नाम का एक राजा (विचार ४६४, काल)। °व वि [°वत्] ? बलवान्, बलिष्ठ (विसे ७६८)।

२ प्रभूत सैन्यवाला (श्रौप)। ३ पुं अहोरात्र का आठवां मुहूर्त (सुज १०, १३)। °वइ पुं [°पति] सेनापति, सेनाध्यक्ष (महा)। °वंत, °वग देखो °व (राया १, १, श्रौप; राया १, ५)। °वत्त न [°वत्त्व] बलिष्ठता (श्रौषमा ६)। °वाउय वि [°व्यापृत] सैन्य मे लगाया हुआ (श्रौप)। °हद् पुं [°भद्र] ? बलदेव। २ छन्द-विशेष (पिंग)। देखो °भद्।

वला अ. स्त्री [वलात्] जबरदस्ती, (से १०, ७८, श्रौषमा २०), 'वला १०३१ टी)।

वला स्त्री [बला] ? मनुष्य की ब मे चौथी अवस्था, तीस से चालीस की अवस्था (तंडु १६)। २ दृष्टि की एक दृष्टि। ३ भगवान् कु शासन-देवी, अच्युता (राज)।

बलाका देखो बलाया (परह १, १- बलाणय न [दे] ? उद्यान प्रादि को बैठने के लिए बनाया जाता प्रादि (घर्मवि ३३, सिरि ५८६) दरवाजा, 'पविसतो वेव बलाणय निसीहिया तिभि' (वेद्य १८८)।

बलामोडि स्त्री [दे. बलामोडि] (दे ६, ६२)।

बलामोडिअ म [दे. बलादाभो: क्कार से, जबरदस्ती से, 'केलेसु तेण म समरम्मि जयसिरी ग १६७, उत्तर १०३, पि २३८)।

बलकार पुं [बलात्कार] जबरदस्ती (प बलकार } ४६, २६, दे ६, ४६, म २१७, स्वज ७६)।

बलकारिद (शौ) वि [बलात्कारि] पर बलात्कार किया गया हो वह (म मालती १२३)।

बलइ पु [दे] बलघ, वैल (सुपा १ नाट—मुच्छ ६०)।

बलमज्जु स्त्री [दे] बलात्कार, जबरदस्ती ६, ६२)।

बलमोडि देखो बलामोडि, 'मणिमल्ले मोडिचुविण मण्णोण ज्वणीदे' (पा ८: बलमोडिअ देखो बलामोडिअ, 'केलेसु मोडिम तेण समरम्मि जयसिरी ग १६७)।

बलय पुं [दे] बलघ, वैल (पउम ८०, बलाया देखो बलाया (हे १, ६७)।

बलयट्टि स्त्री [दे] ? सखी। २ ध्या सहन करनेवाली स्त्री (दे ६, ६१)।

बलहट्टुया स्त्री [दे] चने की तोरी ११४)।

भमाइअ वि [भ्रमित] घुमाया हुआ, फिराया हुआ (से ३, ६१)।
 भमाइ सक [भ्रमय्] घुमाना, फिराना।
 भमाडेइ (हे ४, ३०), भमाडेसु (सुपा ११४)।
 वृक् भमाडैत (पउम १०६, ११)।
 भमाड देखो भम = भ्रम् । भमाडइ (हे ४, १६१, भवि)।
 भमाड पु [भ्रम] भ्रमण, घूमना, चक्कर (श्रोषभा २३ टी, ८३ टी)।
 भमाडण न [भ्रमण] घुमाना (उप पृ २७८)।
 भमाडिअ देखो भमडिअ (कुमा)।
 भमाडिअ वि [भ्रमित] घुमाया हुआ, फिराया हुआ (पउम १६, २५)।
 भमाव देखो भमाड = भ्रमय् । भमावइ, भमावेइ (पि ५५३, हे ४, ३०)।
 भमास [दे] देखो भमस (दे ६, १०१, पाश्र)।
 भमि स्त्री [भ्रमि] १ श्रावर्त्त, पानी का चक्राकार भ्रमण (अनुडु ६३)। २ चित्त-भ्रम करने की शक्ति (विसे १६५३)। ३ रोग-विशेष, चक्कर, 'भमिपरिभमियसरीरो' (हम्मीर २८)।
 भमिअ देखो भमडिअ (जी ४८, भवि)।
 ३ न भ्रमण, 'भमिभ्रमणिकंतदेहलीदेस' (गा ५२५)।
 भमिअ देखो भमाइअ (पाश्र)।
 भमिअव्व } देखो भम = भ्रम् ।
 भमिआ }
 भमिर वि [भ्रमित्] भ्रमण करनेवाला (हे २, १४५, सुर १, ५५, ३, १८)।
 भमुह न [भ्र] नीचे देखो, 'दीहाइ भमुहाइ' (आचा २, १३, १७)।
 भमुहा स्त्री [भ्र] सौं, आलि के ऊपर की रोम-राजी (पउम ३७, ५०, श्रोप, आचा, पाश्र)।
 भम्म } देखो भम = भ्रम् । भम्मइ (प्राक्क भम्मड } ६६), भम्मसु (गा ४१५, ४४७)।
 भम्मडइ (हे ४, १६१)। भम्मडेइ (कुमा)।
 भम्मर (अप) देखो भमर (पिग)।
 भय देखो भद । वृक् देखो भयत = भदत ।

भय अक [भज्] १ सेवा करना। २ विकल्प से करना। ३ विभाग करना। ४ ग्रहण करना। भयइ, भमइ (सम्म १२४, कुमा), भए, भएजा (बृह १), भयति (विसे १६६०), 'तम्हा भय जीव वेरग' (श्रु ६१)। वृक्. भयत, भयमाण (विसे ३४४६, सूत्र १, २, २, १७)। कवक्क. 'सव्वत्तुभदमाणसुहेहि' (कपा)। सकृ. भइत्ता (ठा ६)। कृ भइअ, भइअव्व, भएयव्व, भज्ज, भयणिज्ज (विसे ६१८, २०४६, उत ३६, २३, २४, २५, कम्म ५, ११, विसे ६१५, उप ६०४, विसे ३२०२, ७४८, १८१, जीवम १४५, पंच ५, ८, विसे ६१६, जीवस १४७)।
 भय न [भय] डर, त्रास, भीति (आचा, एयाया १, १, गा १०२, कुमा, प्रासू १६, १७३)।
 °अर वि [°कर] भय-जनक (से ५, ४४, ११, ७५)। °जणणी स्त्री [°जननी] १ त्रास उत्पन्न करनेवाली (बृह १)। २ विद्या-विशेष (पउम ७, १४१)। °वाह पु [°वाह] राक्षस-वश का एक राजा, एक लंका-पति (पउम ५, २६३)।
 भय देखो भव (उव, कुमा, सण, सुपा ४२०, गउड)।
 भय देखो भग (श्रोप, पिग)।
 भयंकर वि [भयकर] १ भय-जनक, भोषण (हे ४, ३३१, सण, भवि)। २ प्राणि-वध, हिंसा (पएह १, १)।
 भयत देखो भय = भज् ।
 भयत देखो भत = भगवत् (सूत्र १, १६, ६)।
 भयत देखो भदत (श्रोष ४८, उत २०, ११, श्रोप)।
 भयत देखो भत = भयान्त (विसे ३४४६, ३४५३, ३३५४)।
 भयत देखो भत = भवान्त (विसे ३४५४, श्रोप)।
 भयत वि [भयत्र] भय से रक्षा करनेवाला (श्रोप, सूत्र १, १६, ६)।
 भयतु वि [भयत्रात्] भय से रक्षा करनेवाला

'धम्ममाइक्खणे भयतारो' (सूत्र १, ४, १, २५)।
 भयतु वि [भवत्] सेवक, सेवा करनेवाला (श्रोप)।
 भयक } पु [भृतक] १ नौकर, कर्मकर
 भयग } (ठा ४, १, २)। २ वि पोषित (पएइ १, २, एयाया १, २)।
 भयण न [भजन] १ सेवा (राज)। २ विभाग (सम्म ११३)। ३ पु लोभ (सूत्र १, ६, १)।
 भयण देखो भवण (नाट—चैत ४०)।
 भयणा स्त्री [भजना] १ सेवा (निचू १)।
 २ विकल्प (भग, सम्म १२४, द ३१, उव)।
 भयप्पइ } देखो वहरसइ (हे २, १३७, भयप्पइ } षड्)।
 भयवग्गाम पु [दे] मोडेरक, गुजरात का एक गाँव (दे ६, १०२)।
 भयाणय वि [भयानक] भयकर, भय-जनक (स १२१)।
 भयालि पु [भयालि] भारतवर्ष के भावी शठारहवें जिनदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५४)। देखो सयालि।
 भयालु वि [भीरु] भीरु, डरपोक (दे ६, १०७, नाट)।
 भयाचण (अप) देखो भयाणय (भवि)।
 भयावह वि [भयावह] भय-जनक, भय-कारक (सूत्र १, १३, २१)।
 भर सक [भृ] १ भरना। २ धारण करना। ३ पोषण करना। भरइ (भवि, पिग), भरसु (कम्म ४, ७६)। वृक्. भरत (भवि)।
 कवक्क भरत, भरैत, भरिज्जत (से १, ५८, ४, ८, १, ३७)। सकृ भरेऊणं (आक ६)। कृ भरणिज्ज, भरणीअ, भत्तव्व, भरेअव्व (प्राश्र, नाट राज, से ६, ३)।
 भर सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना। भरइ (हे ४, ७४, प्राश्र)। वृक् भरत (गा ३८१, भवि)। सकृ भरिअ, भरिऊणं (कुमा)। प्रयो, वृक्. भरावत (कुमा)।
 भर पुन [भर] १ सपूह प्रकर, निकर, 'जइअव्व तह एयागियावि भीमारिबुडुभर'

(विपा १, १) । दत्त पु [°दत्त] देखो अत के दो अर्थ (विपा १, ५) ।

बहि अ [बहिस्] बाहर, अत्रहिलेसे परिकल्प (आचा), 'गामबहिस्मि यत ठविकण गामतरे पविट्ठो सो' (उप ६ टी) । हुत्त वि [°दे] बहिष्कृत (गण्ड) ।

बहिअ वि [°दे] मथित, विलोडित (पद्) ।

बहि देखो बहि (आचा, उच) ।

बहिणिआ } ली [सगिनी] बहिन (अभि
बहिणी } १३७, कण्, पात्र, पत्रम ६,
६, हे २, १२६, कुमा) । २ सखी, बयस्या
(सखि ४७) । तणअ पु [°तनय] भगिनी-
पुत्र (दे) । वइ पुं [°पति] बहनोई (दे) ।
देखो भइणी ।

बहिन्ता अ [बहिस्तात्] बाहर (मुञ्ज ९) ।

बहिद्धा अ [°दे] १ बाहर । २ मैथुन, ली-
सनीय (हे २, १७४, ठा ४, १—पत्र
२०१) ।

बहिद्धा अ [बहिर्धा] बाहर की तरफ (दस
२, ४) ।

बहिया अ [बहिस्, बहिस्तात्] बाहर
(विपा १, १, आचा, उवा, औप) ।

बहिर वि [बाह्य] बहिर्भूत, बाहर का (प्राक्
३८) ।

बहिर वि [बधिर] बहरा, जो सुन न सकता
हो वह (विपा १, १, हे १, १८७, प्राप्
१४३) ।

बहिरिय वि [बधिरित] बधिर किया हुआ
(सुर २, ७५) ।

बहु वि [बहु] १ प्रचुर, प्रभूत, अनेक, अनल्प
(ठा ३, १, भग, प्राप् ४१, कुमा, आ २७) ।

ली. हुई (पद्, प्राक् २८) । २ क्विदि
अत्यन्त, अतिशय (कुमा ५, ६६, काल) ।
°उदग पु [°उदक] वानप्रस्थ का एक भेद
(औप) । °चूड पु [°चूड] विद्याधर वरा
का एक राजा (पत्रम ५, ४६) । °जपिर वि
[°जलिपल] चाचाट, वकवादी (पात्र) ।

°जण पु [°जन्] अनेक लोग (भग) । २ न
आलोचना का एक प्रकार (ठा १०) । °ण्ड
देखो °नड (राज) । °णाय न [°नाद्]
नगर-विशेष (पत्रम ५५, ५३) । °दिसिअ

वि [°देरय] कुल ज्यादा, थोडा बहुत
(आचा २, ५, १, २२) । °नड पु [°नट]
नट की तरह अनेक भेप को धारण करने-

वाला (आचा) । °पडिपुण्ण, °पडिपुञ्ज वि
[°परिपूर्ण] पूरा पूरा (ठा ६, भग) ।
°पडिय वि [°पडित] अति शिक्षित,
अतिशय शिक्षित (णाय १, १४) ।

°पलावि वि [°पलापिन] वकवादी (उप
पृ ३३६) । °पुत्तिअ न [°पुत्तिक] बहु-
पुत्रिका देवी का सिंहासन (निर १, ३) ।
°पुत्तिआ ली [°पुत्तिका] १ पूणभद्र नामक
यक्षेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १,
णाय २) । २ सौधर्न देवलोक की एक देवी
(निर १, ३) । °पएस वि [°प्रदेश]
प्रचुर प्रदेश—कर्म-दल वाला (भग) ।

°फोड वि [°फोट] बहु-भक्षक (शोधमा
१६१) । °मगिय न [°भाङ्गि-रु] दृष्टिवाद
का सूत्र-विशेष (सम १२८) । °मय वि
[°मत्] १ अत्यन्त अमोह (जीव १) । २
अनुमोदित, समत, अनुमत (काप्र १७६, सुर
४, १८८) । °माइ वि [°मायिन] अति
कपटी (आचा) । °माण पु [°मान] अति-
शय आदर (आवम: वि ६००, नाट—विक्र
५) । °माय वि [°माय] अति कपटी
(आचा) । °मुल्ल, °मोल्ल वि [°मूल्य]
मूल्यवाच, कीमती (राज, षट्) । °रय वि
[°रत्] १ अत्यन्त आसक्त (आचा) । २
जमालि का अनुयायी । ३ न जमालि का
चलाया हुआ एक मत—क्रिया की निष्पत्ति

अनेक समयों में ही माननेवाला मत (ठा १०,
औप) । °रय न [°रजस्] छाद्य-विशेष,
चिडडा की तरह का एक प्रकार का छाद्य
(आचा २, १, १, ३) । °रव वि [°रव]
१ प्रभूत यशवाला, यशस्वी (सम ५१) । २
न एक विद्याधर-नगर (इक) । °रुवा ली
[°रुपा] सुख नामक भूतेन्द्र की एक अग्र-
महिषी (ठा ४, १, णाय २) । °लेव पु
[°लेप] चावल आदि के चिकने माँड का
लेप (पडि) । °वयण न [°वचन] बहुत्व-
बोधक प्रत्यय (आचा २, ४, १, ३) । °विह
वि [°विध] अनेक प्रकार का, नामाविध
(कुमा, उच) । °विहिय वि [°विध,
°विधिरु] विविध, अनेक तरह का (सुअनि
६४) । °सपत्त वि [°सपत्त] कुछ कम
सपत्त (भग) । °सख पु [°सख] ग्रहोराज
का दशवाँ ग्रह (सुज १०, १३) । °सो अ
[°शस्] अनेक बार (उच, आ २७, प्राप्
४२, १५६, स्वन् ५६) । °सुय वि
[°श्रुत] शासन, शाखों का अच्छा जानकार,
परिडत (भग, सम ५१, ठा ६—पत्र ३५७,
सुपा ५६४) । °हा अ [°धा] अनेकधा
(उच, भवि) ।

वहुअ } वि [बहु, °क] ऊपर देखो (हे
बहुअय } २, १६४, कुमा, आ २७) ।

वहुआरिआ } ली [°दे] बहारी, भाडू (दे
बहुआरी } ८, १७ टी) ।

वहुई देखो बहु = ई ।

बहुखज्ज वि [बहुखाय] १ बहु-मध्य, सूत्र
बनाने योग्य । २ पशुक—चिडडा बनाने योग्य
(आचा २, ४, २, ३) ।

वहुग देखो बहुअ (आचा ७) ।

बहुजाण पु [°दे] १ चोर, तस्कर । २ वृत्त-
ऊप । ३ जार, उपपति (पद्) ।

बहुण पु [°दे] १ चोर, तस्कर । २ वृत्त (दे
६, ६७) ।

बहुणाय वि [बाहुनाद्] बहुनाद-नगर का
(पत्रम ५५, ५३) ।

बहुत्त वि [प्रभूत] बहुत, प्रचुर (हे १,
२३१) ।

बहुसुह पु [°दे बहुसुख] दुर्जन, खल (वि ६,
६२) ।

बहुराणा ली [°दे] बड्ग धारा, तलवार की
धार (दे ६, ६१) ।

बहुरावा ली [°दे] शिवा, शृगाली (दे ६,
६१) ।

बहुरिया ली [°दे] बहारी, भाडू (वह १) ।

बहुल वि [बहुल] १ प्रचुर, प्रभूत, अनेक
(कुमा, आ २८) । २ बहुविध, अनेक प्रकार
का (आवम) । ३ व्याप्त (सुपा ६३०) । ४
पु कृष्ण पत्र (पात्र) । ५ स्वनाम व्याप्त
एक ब्राह्मण (भग १५) ।

बहुल पुं [बहुल] आचार्य महाशिरि के शिष्य
एक प्राचीन जैन मुनि (एवि ४६) ।

वि [°जिन] रागादि को जीतनेवाला, 'सासण जिणाय भवजिणाय' (सम्म १)। °डिइ स्त्री [°स्थिति] १ देव आदि योनि मे उत्पत्ति की काल-मर्यादा (ठा २, ३)। २ ससार मे अवस्थान (पचा १)। °स्थ वि [°स्थ] ससार मे स्थित (ठा २, १)। °स्थकेवल्लि वि [°स्थकेवल्लिन्] जीवनमुक्त (सम्म ८६)। °धारणिज्ज न [°धारणीय] जीवन-पर्यन्त ससार मे धारण करने योग्य शरीर (भग, इक)। °पच्चइय वि [°प्रत्ययिक] १ नरकादि योनि-हेतुक। २ न. अवधिज्ञान का एक भेद (ठा २, १, मम १४५)। °भूइ पु [°भूति] सङ्कत का एक प्रसिद्ध कवि (गउड)। °सिद्धिय. °सिद्धीय वि [°सिद्धिक] उसी जन्म मे या बाद के किसी जन्म मे मुक्त होनेवाला, मुक्ति गामी (सम २, पएण १८, भग, विसे १२३०, जीवस ७५, श्रावक ७३, ठा १, विसे १२२६)। °भिणदि, °भिनिंदि, °हिनिंदि वि [°भिनिन्दन्] ससार को पसद करनेवाला, ससार को अन्ध्या माननेवाला (राज, सबोध ८, ५३)। °ोक्ग्गाहि न [°ोपग्गाहिन्] कर्म विशेष (धर्मस १२६१)।

भव देखो भव्व (कम्म ४, ६)।

भव } पु [भवत्] तुम, आप (कुमा, भवत) हे २, १७४)।

भवत देखो भव = भू।

भवँ (अप) भम = भ्रम्। भवँइ (सएण)। वक्क भवँत (भवि)। सक्क भविँत्तु (सएण)।

भवँण (अप) देखो भमण (भवि)।

भमण न [भवन्] १ उत्पत्ति, जन्म (धर्मसं १७२)। २ गृह, मकान, वसति (पात्र, कुमा)। ३ असुरकुमार आदि देवो का विमान (पएण २)। ४ सत्ता (विसे ६६)। °वइ पुं [°पति] एक देव-जाति (भग)। °वासि पु [°वासिन्] वही पूर्वोक्त अर्थ (ठा १०, ओप)। °वासिणी स्त्री [°वासिनी] देवो विशेष (पएण १७, महा ६८, १२)। °हिव पु [°हिप] एक देव-जाति (सुपा ६२०)।

भवमाण देखो भव = भू।

भवर देखो भमर (चड)।

भवानी स्त्री [भवानी] शिव-पत्नी, पार्वती (पात्र, समु १५७)। °कन पु [°कान्त] महादेव (पिंग)।

भवारिस वि [भवाट्टरा] तुम्हारे जैसा, आपके तुल्य (हे १, १४२, चड, सुपा २७६)।

भवि पु [भविन्] भव्य जीव, मुक्ति-गामी प्राणी (भवि)।

भविअ देखो भव = भू।

भविअ वि [भव्य] १ सुन्दर (कुमा)। २ श्रेष्ठ, उत्तम (सबोध १)। ३ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी (पएण १, उव)। ४ भावी, होनेवाला (हे २, १०७, षड्)। देखो भव्व = भव्य।

भविअ वि [भविक] १ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी। २ ससारी, ससार मे रहनेवाला (सुर ४, ८०)।

°भविअ वि [°भविक] भव-सबन्धी (सएण)।

भविती स्त्री [भवित्री] होनेवाली (पिंग)।

भवियव्व देखो भव = भू।

भवियव्वया स्त्री [भवितव्वया] नियति, अवश्यभावी, होनी (महा)।

भविल वि [भविल] निष्ठुर (दश० अगस्त्य षु० पत्र० १६८, सूत्र० ३२६)।

भविस (अप) देखो भवीस। °त्त, °यत्त पु [°दत्त] एक कथा-नायक (भवि)।

भविस्स पु [भविष्य] १ भविष्य काल, आगामी समय (पउम ३५, ५६, पि ५६०)। २ वि भविष्य काल में होनेवाला, भावी (एयाया १, १६—पत्र २१४, पउम ३५, ५६, सुर १, १३५, कप्पू)।

भवीस (अप) ऊपर देखो (भवि)।

भव्व वि [भव्य] १ सुन्दर, 'सव्व भव्व करिस्सामि' (सुपा ३३६)। २ उचित, योग्य (विसे २८, ४४)। ३ श्रेष्ठ, उत्तम (चज्जा १८)। ४ होता, वर्तमान, 'एय भूय वा भव्व वा भविस्स वा' (एयाया १, १६—पत्र २१४, कप्प, विसे १३४२)। ५ भावी, होनेवाला (विसे ५८, पंच २, ८)। ६ मुक्ति-योग्य, मुक्ति-गामी (विसे १८२२, ३, ४, ५, ६१)। °सिद्धीय देखो भव सिद्धीय,

'पज्जत्तापज्जत्ता सुहुमा किंचहिया भव्व-सिद्धीया' (पच २, ७८)।

भव्व पु [दे] भागिनेय, भानजा (दे ६, १००)।

भस सक [भष्] भूँकना, धान का बोलना। भसइ (हे ४, १८६, षड्—पत्र २२२), भसति (मिरि ६२२)।

भसग पु [भसक] एक राज-कुमार, श्रीकृष्ण के बड़े भाई जरत्कुमार का एक पौत्र (उव)। भसण देखो भिसण। भसणेमि (पि ५५६)। भसण न [भषण] १ कुत्ते का शब्द (आ २७)। २ पु श्वान, कुत्ता (पात्र, सिरि ६२२)।

भसणअ (अप) वि [भपिट्ठ] भूँकनेवाला, 'सुणउ भसणउ' (हे ४, ४४३)।

भसम पु [भस्मन्] १ ग्रह-विशेष, 'भस-मगहपीडियं इमं तित्थं' (सट्ठि ४२ टी)। २ राव, भभूत, 'भसमुदधूलियगतो' (महा, सम्मत ७६)। देखो भास = भस्मन्।

भसल देखो भमर (हे, १, २४४, २५४, कुमा, सुपा ४, (पिंग)।

भसुआ स्त्री [दे] शिवा, श्रुगाली, सियारिन् (दे ६, १०१, पात्र)।

भसुम देखो भसम (प्राक्क ३७)।

भसेल पुन [दे] धान्य आदि का तीक्ष्ण अय भाग, 'सालिभसेल्लसरिसा से केसा' (उवा

भसोल न [दे भसोल] एक नाट्य-वि (राज)।

भस्थ (मा) देखो भट्ट (षड्)।

भस्थालय (मा) देखो भट्टारय (षड्)।

भस्स देखो भंस = भ्रश्। भस्सइ (प्राक्क ७६)। वक्क. भस्सत (काल)।

भस्स पु [भस्मन्] १ ग्रह-विशेष। २ राख (हे २, ५१)।

भस्सिअ वि [भस्मित] जलाकर राख नि हुआ, भस्म किया हुआ (कुमा)।

भा अक [भा] चमकना, दीपना, प्रकाश, 'भा भाजो वा दितीए' (विसे ३४४७)।

भाइ (कप्पू), भासि (गउड)। वक्क दे. भंत = भात्।

भा स्त्री [भा] दीप्ति, प्रभा, कान्ति, तेज (कुमा)। °मडल पुं [°मण्डल] राजा जनक

वाल पु [वाल] १ बाल, केश (उप ८३४) ।
२ बालक, शिशु (कुमा, प्राप्त ११६) । ३
वि मूर्ख, अज्ञानी (पात्र) । ४ नया, नूनन
(कप्पु) । ५ पु स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर
राजा (पउम १०, २१) । ६ वि, असयत,
सयम-रहित (ठा ४, ३) । ७ कइ पु [कवि]
तरुण कवि, नया कवि (कप्पु) । ८ क पुं
[क] उदित होता सूर्य (कुमा) । ९ ग्गाह
पुं [ग्राह] बालक की सार-सम्हाल करने-
वाला नौकर (सुर १, १६२) । १० ग्गाहि पुं
[ग्राहिन] वही पूर्वोक्त अर्थ (गाया १,
२—पत्र ८४) । ११ घाय वि [घात] बाल-
हत्या करनेवाला (गाया १, २, १८) । १२ तव
पुन [तपस] १ अज्ञानी की तपश्चर्या
(भग, श्रौप) । २ वि अज्ञान-पूर्वक तप करने-
वाला (कम्म १, ५६) । १३ तवस्सि वि
[तपस्विन्] अज्ञान-पूर्वक तप करनेवाला,
मूर्ख तपस्वी (पि ४०५) । १४ पण्डिअ वि
[पण्डित] आशिक त्याग करनेवाला, कुछ
अशो मे त्यागी और कुछ में अत्यागी (भग) ।
१५ बुद्धि वि [बुद्धि] अनभिज्ञ (धण ५०) ।
१६ भरण न [भरण] अविरत दशा का भरण,
असंयमी की मौत (भग, सुपा ३५७) । १७ वियण,
वीयण पुत्री [व्यजन] चामर, चँवर
(गाया १, ३), स्त्री, 'उवणहाभो बालवी-
अणो' (ठा ५, १—पत्र ३०३) । १८ हार पुं
[धार] बालक का सार-सम्हाल करनेवाला
नौकर (सुपा ४५८) ।

वाल देखो बल । १ ण, २ वि [ज्ञ] बल
को जाननेवाला (आचा १, २, ५, ५,
आचा) ।

बाल न [बाल्य] बालत्व, बचपन, लडकपन,
बालपन, मूर्खता (उत्त ७, ३०) । देखो बल ।

बालअ देखो बाल = बाल (गा १२६) ।

बालअ पु [दे] वणिक-पुत्र (दे ६, ६२) ।

बालगपोइआ स्त्री [दे] १ जल-मन्दिर,
तलाव आदि में बनवाया जाता छोटा प्रासाद ।
२ बलमी, अट्टालिका (उत्त ६, २४) ।

बाला स्त्री [बाला] १ कुमारी, लडकी
(कुमा) । २ मनुष्य की दस अवस्थाओं मे
पहली दशा, दस वर्ष तक की अवस्था (तदु
१६) । ३ छन्द-विशेष (पिग) ।

बालालुबी स्त्री [दे] तिरस्कार, अवहेलना
(सुपा १४) ।

वाल्लि वि [वाल्लिन] बाल-प्रधान, सुन्दर केश-
वाला (अणु, बृह १) ।

वाल्लिआ स्त्री [वाल्लिका] बाला, कुमारी,
लडकी (प्राप्त ५१, महा) ।

वाल्लिआ स्त्री [वाल्लता] १ बालकपन, शिशुता
(भग) । २ मूर्खता, वेवकूपी, 'विद्यया मदस्सा
वाल्लिया' (आचा) ।

वाल्लिस वि [वाल्लिअ] मूर्ख, वेवकूप (पात्र,
धण २३) ।

वाह सक [वाध] १ विरोध करना । २
रोकना । ३ पीडा करना । ४ विनाश करना ।

वाहइ, वाहए (पचा ५, १५, हे १, १८७,
उव), वाहति (कुप्र ६८) । कवक, वाहिज्जत,
बाहीअमाण (पउम १८, १६, सुपा ६४५,
अभि २४४) कृ वाहणिज्ज (कप्पु) ।

वाह पु [वाष्प] अश्रु, आँसू (हे २, ७०,
पात्र, कुमा) ।

वाह पु [वाध] विरोध (भास ३४) ।

वाह देखो वाढ (प्रथो ३७) ।

वाह पु [वाहु] हाथ, भुजा (सक्ति २) ।

वाहग वि [वाधक] १ रोकनेवाला (पचा १,
४६) । २ विरोधी, 'अन्धुवगयवाहाग नियमा'
(आवक १६२) ।

वाहड पुं [वाहड, वागभट] राजा कुमारपाल
का स्वनाम-प्रसिद्ध मन्त्री (कुप्र ६) ।

वाहण न [वाधन] १ बाधा, विरोध (धर्मस
१२७६) । २ विराधन (पचा १६, ५) ।

वाहणा स्त्री [वाधना] ऊपर देखो (धर्मस
१११) ।

वाहर देखो बाहिर (आचा) ।

बाहल पुं [बाहल] देश-विशेष (आवम) ।

बाहल्ल न [बाहल्ल्य] स्थूलता, मोटाई (सम
३५, ठा ८—पत्र ४४०, श्रौप) ।

बाहा स्त्री [बाधा] १ हरकत, हरज । २
विरोध (सुपा १२६) । ३ पीडा, परस्पर
संश्लेष से होनेवाली पीडा (ज १, भग
१४, ८) ।

बाहा स्त्री [बाहु] हाथ, भुजा (हे १, ३६,
कुमा, महा, उवा, श्रौप) ।

वाहा स्त्री [दे-वाहा] नरकावास-श्रेणी
(हेवेन्द्र ७७) ।

बाहि } अ [वाहिस्] बाहर (सुज्ज १६-
वाहि } पत्र २७१, महा, आचा, कुमा, हे २,
१४०, पि ४८१) ।

बाहिज्ज न [वाधिर्य] वधिरता, बहुराजन
(विसे २०८) ।

बाहिर अ [वाहिस्] बाहर (हे २, १४०,
पात्र, आचा, उव) । २ ओ अ [तस्]
बाहर से (कप्पु) ।

बाहिर वि [वाह] बाहर का (आचा, ठा
२, १—पत्र ५५, भग २, ८ टी) । ३ उद्धि
पु [ऊर्ध्विन्] कायोत्सर्ग का एक दोष,
दोनों पाष्णि मिलाकर और पैर को फेलाकर
किया जाता कायोत्सर्ग (वेद्य ४८६) ।

बाहिरग वि [वाहिरङ्ग] बाहर का, बाह्य
(सुप्र २, १, ४२) ।

बाहिरिय वि [वाहिरिक, वाह] बाहर का,
बाहर से सवन्ध रखनेवाला (सम ८३, गाया
१, १, पिड ६३६, श्रौप, कप्पु) ।

बाहिरिया स्त्री [वाहिरिका] किले के बाहर
की गृह-पत्ति, नगर के बाहर का गृहल्लो
(सुप्र २, ७, १, स ६६) ।

बाहिरिल्ल वि [बाह] बाहर का (भग, पि
५६५) ।

बाहु पुत्री [बाहु] १ हाथ, भुजा (हे १,
३६, आचा, कुमा) । २ पु, अगवात् अणुभवेव
का पुत्र, बाहुवलि (कुप्र ३१०) । ३ वलि
पु [वलि] १ भगवान् आदिनाथ का एक

पुत्र, तक्षशिला का एक राजा (सम ६०,
पउम ४, ५२, उव) । २ बाहुवलि के प्रपौत्र
का पुत्र (पउम ५, ११) । ३ मूल न [मूल]
कक्षा, बगल (कप्पु) ।

बाहुअ पु [बाहुक] स्वनाम-ख्यात एक ऋषि
(सुप्र १, ३, ४, २) ।

बाहुअअ वि [दे] लज्जित, शरमिदा (सुपा
४७४) ।

बाहुया-स्त्री [बाहुका] शौन्द्रिय जन्तु-विशेष
(राज) ।

बाहुल्लग देखो बाहु (तदु ३६) ।

बाहुल्लेय पु [बाहुलेय] गो-बल्ल, बैल, वृषभ
(आवम) ।

६८)। २ कहलाया हुआ, 'मयणसिरिनामाए रजो भज्जाए भाणुओ मती' (सुपा ५८७)।
 भाणु पु [भाणु] १ सूर्य, रवि (पउम ४६, ३६, पुष्प १६४, सिरि ३२)। २ किरण (प्राभा)। ३ भगवान् धर्मनाथ का पिता, एक राजा (सम १५१)। ४ स्त्री एक इन्द्राणी, शक्र की एक अग्र-महिषी (पउम १०२, १५६)। ५ कण्ण पु [कण्ण] रावण का एक अनुज (पउम ७, ६७)। ६ मई स्त्री [मती] रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०)। ७ मालिणी [मालिनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६)। ८ मित्त न [मित्त] उज्जयिनी के राजा वलमित्र का छोटा भाई (काल, विचार ४६४)। ९ वेग पु [वेग] एक विद्याधर का नाम (महा, सण)। १० सिरी स्त्री [श्री] राजा वलमित्र की बहिन (काल)।
 भाम देखो भमाड = भ्रमय्। भामेइ (हे ४, ३०)। कवक भामिज्जत (गा ४५७)। कृ भामेयव्व (ती ७)।
 भामण न [भ्रामण] घुमाना, फिराना (सम्मत्त १७४)।
 भामर न [भ्रामर] १ मधु-विशेष, भ्रमरी का बनाया हुआ मधु (पव ४)। २ पुं. दोषक छन्द का एक भेद (विंग)।
 भामरी स्त्री [भ्रामरी] १ वीणा-विशेष (णाय १, १७—पत्र २२६)। २ प्रवक्षिणा (कप्प, भवि)।
 भामिअ वि [भ्रमित] १ घुमाया हुआ (से २, ३२)। २ भ्रान्त किया हुआ, भ्रान्त-चित्त किया हुआ, 'धत्तूरभामिओ इव' (मन २७, धर्मवि २३)।
 भामिणी स्त्री [भागिनी] भाग्यवाली (हे १, १६०, कुमा)।
 भामिणी स्त्री [भामिनी] १ कोप-शीला स्त्री। २ स्त्री, महिला (आ १२, सुर १, ७६, सुपा ४७५, सम्मत्त १६३)।
 भाय देखो भाउ (कुमा)।
 भायत देखो भा = भी।
 भायण पुन [भाचून] १ पात्र। २ आघार। ३ योग्य, 'भायणा' भायणाइ' (हे १, ३३, २६७), 'ति विंय घत्ता ते पुत्रभायणा, ताण जीविय सहल' (सुपा ५६७, कुमा)।

भायण न [भाजन] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६)।

भायणंग पु [भाजनाङ्ग] कल्पवृक्ष की एक जाति, पात्र देनेवाला कल्पवृक्ष (पउम १०२, १२०)।

भायणिज्ज देखो भाइणिज्ज (धर्मवि १२, काल)।

भायमाण देखो भाअ = भायय्।

भायर देखो भाउ (कुमा)।

भायल पु [दे] जात्य अश्व, उत्तम जाति का घोडा (दे ६, १०४, पात्र)।

भार पु [भार] १ बोझा, गुरुत्व (कुमा)।

२ भारवाली वस्तु, बोझवाली चीज (आ ४०)। ३ काम संपादन करने का अधिकार, 'भारकखेवि पुत्ते जो नियमार ठवित्तु नियपुत्ते, न य साहेइ सकज्ज' (प्रासू २७)। ४ परि-

माण-विशेष, 'लाउअबीअ इक्क नासइ भारं गुडस्स जह सहसा' (प्रासू १५१)। ५ परिग्रह, घन-धान्य आदि का सग्रह (परह १, ५)।

६ गंगसो अ [ग्रशस्] भार भार के परिमाण से, 'दसद्धवन्नमल्लं कुम्भगंगसो य भारगंगसो य' (णाय १, ८—पत्र १२५)। ७ वह वि [वह] बोझा ढोनेवाला (आ ४०)। ८ वह वि [वह] वही अर्थ (पउम ६७, २६)।

भारई स्त्री [भारती] भाषा, वाणी, वाक्य, वचन (पात्र)। देखो भारही।

भारदाय } न [भारद्वाज] १ गोत्र-विशेष,
 भारदाय } जो गौतम गोत्र की एक शाखा है (कप्प, सुज्ज १०, १६)। २ पु भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न, 'जे गौयमा ते गंगा ते भारद्वा (१ हाया), ते अगिरसा' (ठा ७—पत्र ३६०)। पक्षि-विशेष (ओवभा ८४)। ४ मुनि-विशेष (पि २३६, २६८, ३६३)।

भारय देखो भार (सुपा १४, ३८५)।

भारह न [भारत] १ भारतवर्ष, भरत-क्षेत्र (उवा), 'जहा निससे तवण्णिमाली पनासई केवलभारह तु' (दस ६, १, १४)। २ पाण्डव कौरवों का युद्ध, महाभारत (पउम १०५, १६)। ३ अर्थ-विशेष, जिसमें पाण्डव-कौरव युद्ध का वर्णन है, व्यास-मुनि प्रणीत महाभारत (कुमा, उर ३, ८)। ४ भरत

मुनि-प्रणीत नाट्य-शास्त्र (अणु)। ५ वि. भारतवर्ष-सम्बन्धी, भारतवर्ष का (ठा २, ३—पत्र ६६), 'तत्थ खलु इमे दुवे सूरिया पन्नत्ता, त जहा—भारहे चेव सूरिए, एरवए चेव सूरिए' (सुज्ज १, ३)। 'खेत्त न [क्षेत्र] भारतवर्ष' (ठा २, ३ टी—पत्र ७१)।

भारहिय वि [भारतीय] भारत-सम्बन्धी, 'जा भारहियकहा इव भीमज्जुणउलसउरिए-सोहिल्ला' (सुपा २६०)।

भारही स्त्री [भारती] १ सरस्वती देवी (पि २०७)। २ देखो भारई (स ३१६)।

भारिअ वि [भारिक] भारी, भारवाला, गुरु (दे ४, २, णाय १, ६ पत्र—११४)।

भारिअ वि [भारित] १ भारवाला, भारी (उप पृ १३४)। २ जिस पर भार लादा गया हो वह, भार-युक्त किया गया (सुख २, २५)।

भारिआ देखो भज्जा (हे २, १०७, उवा, णाय २)।

भारिअ वि [भारवत्] भारी, बोझवाला (धर्मवि १३७)।

भारुड पु [भारुण्ड] दो घुँह और एक शरीर वाला पक्षी, पक्षि-विशेष (कप्प, औप, महा-दे ६, १०८)।

भाल न [भाल] ललाट (पात्र, कुमा)।

भलुकी [दे] देखो भल्लुकी (भत्त १६०)।

भाल्ल पुन [दे] मदन वेदना, काम-पीडा (सक्ति ४७)।

भाव सक [भावय्] १ वासित करना, गुणा-घान करना। २ चिन्तन करना। भावेइ (विवे ६८), भाविति (पिड १२६), 'भावेज्ज भावण' (हि १६), भावेसु (महा)। कर्म. भाविज्जइ (प्रासू ३७)। वक्क भावेत्त, भावमाण, भावेमाण (सुर ८, १८५, सुपा २६५, उवा)। सक्क. भावेत्ता, भाविऊण (उवा, महा)। कृ भावणिज्ज, भावियव्व, भावेयव्व (कप्प, काल, सुर १४, ८४)।

भाव अक [भास्] १ दिखाना, लगना, मालूम होना। २ पसन्द होना, उचित मालूम होना,

विभेलय देखो वहेडय (परण १—पत्र ३१)।
विराड पु [विडाल] ? पिगल-प्रसिद्ध मध्य-
लघुक पांच मात्रावाला अक्षर-समूह । २ छद-
विशेष (पिग)।

विराल देखो विडाल (सुर १, १८)।

विरालिआ देखो विडालिआ (सम्मत्त
विराली) १२३, पात्र)। २ भुजपरिसर्प-
विशेष, हाथ से चलनेवाला एक प्रकार का
प्राणी (सूत्र २, ३, २५)।

विरालिया बी [विरालिका] स्थल-कन्द-
विशेष (आचा २, १, ८, ३)।

विरुद न [विरुद] इलकाव, पदवी (सम्मत्त
१४१)।

विल न [विल] १ रत्न, चिवर, साँप आदि
जन्तुओं के रहने का स्थान (विपा १, ७,
गउड)। २ कूप, कुआँ (राय)। ३ कोलीकारक
वि [दे] कोलीकारक दूसरे को व्यामृग्य
करने के लिए विस्वर वचन बोलनेवाला
(परह १, ३—पत्र ४४)। ४ पतिया बी
[पडिक्तका] खान की पद्धति (परह २,
५—पत्र १५०)।

विलाड } देखो विडाल (भग, पि २४१)।
विलाड }

विलाडिआ देखो विरालिआ (पि २४१)।

विल पु [विल्व] १ वृक्ष-विशेष, वेल का पेड़
(परण १, उप १०३१ टी)। २ न वेल का
फल (पात्र)।

विल्ल पु [विल्वल] १ अनार्य देश-विशेष।
२ उस देश में रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह
१, १—पत्र १४)। देखो चिल्ल = चिल्लव।

विस न [विस] कमल आदि के नाल का
तन्तु, मृणाल (गाया १, १३, कुमा, पात्र)।
३ कठी बी [कण्ठी] बलाका, बक पत्ती की
एक जाति (दे ६, ६३)। देखो भिस =
विस।

विसि देखो विसी (दे १, ८३)।

विसिणी बी, [विसिनी] कमलिनी, कमल
का गाछ (पि २०६)।

विसी बी [वृषी] ऋषि का आसन (दे १,
८३, पि २०६)।

विह अक [भी] डरना। विहेद (प्राक ६४,
पि ५०१)।

विह वि [वृहत्] बड़ा, महान् । १ णर पु
[नल] छन्द विशेष (पिग)।

विहूपपइ } देखो वहरसइ (हे २, १३७,
विहूपफइ } १, १३८, २, ६६, षड्, कुमा)।
विहूपसइ }

विहिअ देखो विहिअ (प्राक ८)।

विहेलगा देखो विभेलय (दस ५, २, २४)।

बीअ देखो विइअ (हे १, ५, २, ७६, सुर १,
३८, सुपा ४८५)।

बीअ न [बीज] १ बीज, बीया, 'लाउम्रबीअ
इक नासइ भारं गुडस जह सहसा' (प्रासू
१५१, आचा: जो १३, औप)। २ मूल

कारण, 'सारीमारणसाण्येयदुबखवीयभूयकम्म-
वणवहणसह' (महा)। ३ बीर्य, शरीरात्तगतं
सप्त धातुओं में से मुख्य धातु, शुक्र (सुपा
३६०, वव ६)। ४ 'हो' अक्षर (सिरि
१६६)। ५ बुद्धि वि [बुद्धि] मूल अर्थ को

जानने से शेष अर्थों का निज बुद्धि से स्वयं
जाननेवाला (औप)। ६ मत वि [वत्]
बीजवाला (गाया १, १)। ७ रुइ बी

[रुचि] एक ही पद से अनेक पद और
अर्थों का अनुसंधान द्वारा फैलनेवाली रुचि।
२ वि. उक्त रुचिवाला (परण १)। ३ रुह वि

[रुह] बीज से उत्पन्न होनेवाली वनस्पति
(परण १)। ४ वाय पु [वाप] क्षुद्र जन्तु-
विशेष (राज)। ५ सुहुम न [सूदम] छिलके

का अग्र भाग (कप्प)।
बीअऊरय न [बीजपूरक] फल-विशेष, एक
तरह का नीवू (मा ३६)।

बीअजमण न [दे] बीज मलने का खल—
खलिहान (दे ६, ६३)।

बीअण पु [दे] नीचे देखो (दे ६, ६३ टी)।

बीअय पुंन [दे] बीजक वृक्ष-विशेष, असन
वृक्ष, विजयसार का गाछ (दे ६, ६३, पात्र)।

बीअवावय पु [बीजवापक] विकलेन्द्रिय
जन्तु की एक जाति (अणु १४१)।

बीआ बी [द्वितीया] १ तिथि-विशेष, वृज
(सम २६, आ २६, रयण २, गाया १,
१०, सुपा १७१)। २ द्वितीय विभक्ति
(वेइय ५०६)।

बीअ देखो बीअ = बीज (कुमा, परह २,
१—पत्र ६६)।

बीडग न [बीटक] बीडा, पान का बीडा,
सज्जित ताम्बूल (सुपा ३३६)।

बीडि } बी [बीटि, ०टी] ऊपर देखो,
बीडी } 'विहदलबीडीभी कीरेवि मुहम्मि
पसिखवई' (धमवि १४०)।

बीभच्छ पु [बीभत्स] साहित्य प्रसिद्ध एक
रस (अणु १३५)।

बीभच्छ } वि [बीभत्स] १ घृणोत्पादक,
बीभत्थ } घृणा-जनक। २ भयकर, भय-
जनक (उवा, तदु ३८, गाया १, २, सवोष
४४)। ३ पु रावण का एक सुभट (पत्रम
५६, २)।

बीयत्तिय वि [दे बीजयित्] बीज बोनेवाला,
वपन करनेवाला। २ पु पिता, 'बीय वीयत्ति-
यस्सेव' (सुपा ३६०, ३६१)।

बीलय पु [दे] ताडक, कर्णभूषण-विशेष,
कान का एक गहना (दे ६, ६३)।

बीह अक [भी] डरना। बीहद, बीहेद (हे
४, ५३, महा, पि २१३)। वक बीहत
(शोधभा १६, उप ७६८ टी, कुमा)। क.
बीहियव्व (स ६८२)।

बीहच्छ देखो बीभच्छ (पि ३२७)।

बीहण } वि [भीषण, ०क] भय जनक,
बीहणग } भयकर (पि २१३, परह १, १,
बीहणय } पत्रम ३५, ५४)।

बीहविय वि [भीषित] डराया हुआ (सम्मत्त
११८)।

बीहिअ वि [भीत] १ डरा हुआ (हे ४,
५३)। २ न भय, डर, 'न य बीहिअ
ममावि ह' (आ १४)।

बीहिर वि [भेत्] डरनेवाला (कुमा ६, ३५)।
बुआव सक [वाचय] बुलवाना। सक्.
बुआवइत्ता (ठा ३, २—पत्र १२८)।

बुइअ वि [उक्त] कथित (सूत्र १, २, २,
२४, १, १४, २५, परह २, २)।
बुदि पुबी [दे] १ बुध्वा। २ सूकर, सुकर
(दे ६, ६८)।

बुदि बी [दे] शरीर, देह, 'इह बुदि चइताण
तत्थ गतुण सिण्फइ' (ठा १ टी—पत्र २४,
सुज २०, तदु १३, सुपा ६५६, धम्म ६
टी, पात्र)। देखो वोंदि।

बुदिणी बी [दे] कुमारी-समूह (दे ६, ६४)।

भासग वि [भाषक] बोलनेवाला, वक्ता, प्रतिपादक (विसे ४१०, पंचा १८, ९, ठा २, २—पत्र ५६) ।

भासण न [भासन] चमक, दीप्ति, प्रकाश, 'वरमल्लिभासणाय' (श्रौप) ।

भासण न [भाषण] कथन, प्रतिपादन (महा) ।

भासणया } स्त्री [भाषणा] ऊपर देखो (उप भासणा } ५१६, विसे १४७, उव) ।

भासय देखो भासग (विसे ३७४, पण १८) ।

भासय वि [भासक] प्रकाशक (विसे ११०४) ।

भासल वि [दे] दीप्त, प्रज्वलित (दे ६, १००) ।

भासा स्त्री [भापा] १ बोली, 'अट्टारसदेसी-भासाविसारए' (श्रौप १०६, कुमा) । २ वाक्य, वाणी, गिरा, वचन (पात्र) । ३ जडु वि [जड] बोलने की शक्ति से रहित, मूक (श्राव ४) । ४ ज्ञान्ति स्त्री [पर्याप्ति] पुद्गलो को भाषा के रूप में परिणत करने की शक्ति (भग ६, ४) । ५ विजय पु [विचय] १ भाषा का निर्णय । २ दृष्टिवाद, बारहवाँ जैन अग-ग्रन्थ (ठा १०—पत्र ४६१) ।

विजय पु [विजय] दृष्टिवाद (ठा १०) । ३ समिअ वि [समित] वाणी का समय-वाला (भग) । ४ समिइ स्त्री [समिति] वाणी का समय (सम १०) । देखो भास^० ।

भासा स्त्री [भास] प्रकाश, आलोक, दीप्ति (पात्र) ।

भासि वि [भापिन्] भापक, वक्ता (धर्मवि ५२, भवि) ।

भासिअ वि [भापित] १ उक्त, कथित, प्रतिपादित (भग, आचा, सण, भवि) । २ न भापण, उक्ति (श्रावम) ।

भासिअ वि [भापिन्, क] वक्ता, बोलने-वाला (भवि) ।

भासिअ वि [दे] दत्त, श्रापित (दे ६, १०४) ।

भासिअ वि [भासित] प्रकाशवाला, प्रकाश-युक्त (निचू १३) ।

भासिर वि [भापिन्] वक्ता (सुपा. ५३८, सण) ।

भासिर वि [भास्वर] दीप्त, देदीप्यमान (कुमा) ।

भासिह वि [भाषावन्] भाषा-युक्त, वाणी-युक्त (उत्त २७, ११) ।

भासीकय वि [भस्मीकृत] जलाकर राख किया हुआ (उप ६८६ टी) ।

भासुड अक [दे] बाहर निकलना । भासुडइ (दे ६, १०३ टी) ।

भासुडि स्त्री [दे] नि सरण, निर्गमन (दे ६, १०३) ।

भासुर वि [भासुर] १ भास्वर, दीप्तिमान्, चमकता (सुर ६, १८४, सुपा ३३, २७२, कुप्र ६०, धर्मस १३२६ टी) । २ घोर, भोषण, भयकर, 'घोरा दाहणभासुरमइरव-लल्लकभीमभोसणया' (पात्र) । ३ एक देव-विमान (सम १३) । ४ छन्द-विशेष (अजि ३०) ।

भासुरिअ वि [भासुरित] देदीप्यमान किया हुआ, 'भासुरमूसणभासुरिअगा' (अजि २३) ।

भि देखो °न्भि (आचा) ।

भिअप्पइ } देखो बहस्सइ (पि २१२, षड्) ।
भिअप्फइ }
भिअस्सइ }

भिइ देखो भइ = भृति (राज) ।

भिउ पु [भृगु] १ स्वनाम-ख्यात ऋषि-विशेष । २ पर्वत-सानु । ३ शुक्र-ग्रह । ४ महादेव, शिव । ५ जमदग्नि । ६ ऊँचा प्रदेश । ७ भृगु का वंशज । ८ रेखा, राजि (हे १, १२८, षड्) । ९ कच्छ न [कच्छ] नगर-विशेष, भडौच (राज) ।

भिउड न [दे] अग-विशेष, शरीर का अवयव-विशेष (?) , 'भृत्तूण तुण्णभिउडे खग्ग पिट्ठम्मि उत्तरोय च' , 'तो तस्सेव य खग्ग भिउडाओ गिन्दिअण चाणक्को' (धर्मवि ४१) ।

भिउडि स्त्री [भृकुटि] १ भौं-भग, भौं का विकार (विपा १, ३, ४) । २ पु. भगवान् नमिनाथ का शासन-देव (सति ८) ।

भिउडिय वि [भृकुटित] जिसने भौं चढ़ाई हो वह (णया १, ८) ।

भिउडी देखो भिउडि (कुमा) ।

भिउर वि [भिदुर] विनम्बर (आचा) ।

भिउव्व पुं [भार्गव] भृगु पुनि का वंशज-परिव्राजक-विशेष (श्रौप) ।

भिग वि [दे] कृष्ण, काला (दे ६, १०४) । २ नील, हरा । ३ स्वीकृत (षड्) ।

भिग पु [भृङ्ग] १ भ्रमर, मधुकर (पउम ३३, १४८, पात्र) । २ पक्षि-विशेष (पण १७—पत्र ५२६) । ३ कीट-विशेष । ४ विदलित अगार, कोयला (णया १, १—पत्र २५, श्रौप) । कल्पवृक्ष की एक जाति (सम १६) । ६ छन्द-विशेष (पिंग) । ७ जार, उपपति । ८ भाँगरा का पेड़ । ९ पात्र-विशेष, भारी (हे १, १२८) । १० गिभा स्त्री [निभा] एक पुष्करिणी (इक) । ११ पप्रभा स्त्री [प्रभा] पुष्करिणी-विशेष (ज ४) ।

भिगा स्त्री [भृङ्गा] एक पुष्करिणी, वापी-विशेष (इक) ।

भिगार } पुं [भृङ्गार, क] १ भाजन-
भिगारक } विशेष, भारी (पण १, ४,
भिगारग } श्रौप) । २ पक्षि-विशेष, 'भिगा-रवतमेरवखे' (णया १, १—पत्र ६५), 'भिगारकदीएकदियरवेसु' (णया १, १—पत्र ६३, पण ११, श्रौप) । ३ स्वर्ण-मय जल-पात्र (हे १, १२८, ज २) ।

भिगारी स्त्री [दे भृङ्गारी] १ कीट-विशेष, चिरी, फिल्लो (दे ६, १०५, पात्र, उत्त ३६, १४८) । २ मशक, डाँस (दे ६, १०५) ।

भिजा स्त्री [दे] अम्यंग, मालिश (सूअ १, ४, २, ८) ।

भिटिया स्त्री [दे. वृन्ताकी] भटा का गाछ (उप १०३१ टी) ।

भिडिमाल } पु [भिन्दिपाल] राज-विशेष
भिडिवाल } (पण १, १, श्रौप, पउम ८, १२०, स ३८४, कुमा, हे २, ३८, प्राप्र) ।

भिद सक [भिद्] १ भेदना, तोड़ना । २ विभाग करना । भिदइ, भिदए (महा, षड्) । भवि भेच्छ, भिदिस्सति (हे ३, १७१, कुमा, पि ५३२) । कर्म. भिज्जइ (आचा, पि ५४६) । वक्र. भिदत, भिदमाण (ग १३६, पि ५०६) । कवक भिज्जत, भिज्जमाण (से ५, ६५, ठा २, ३, धा ६, भग, उवा, णया १, ९, विसे ३११) । सक. भित्तूण,

बुल वि [दे] बोड, भदन्त, धर्मिष्ठ (पिंग १६८)।

बुलबुला बी [दे] बुलबुला, बुदबुद (दे ६, ६५)।

बुलबुल पुं [दे] ऊपर देखो (षड्)।

बुल्ल देखो वोल्ल। बुल्लइ (कुप्र २६, आ १४), बुल्लति (प्रासू ४)। प्रयो. बुल्लावेइ, बुलावेमि, बुल्लावए (कुप्र १२७, सिरि ४४०)।

बुल सक [ब्रू] बोलना। बुलइ (षड्, कुमा)। वक्तु बुवंत, बुयाण, बुवाण (उत्त २३, २१, सूत्र १, ७, १०, उत्त २३, ३१)। देखो बू।

बुस न [बुस] १ भूसा, यव आदि का कडगर, नाज का छिलका (ठा ८—पत्र ४१७)। २ तुच्छ धान्य, फल-रहित धान्य (गउड)।

बुसि बी [बुधि, सि] मुनि का आसन। ०म, ०मत वि [०मत्] समयी, व्रती, मुनि (सूत्र २, ६, १४, आचा)।

बुसिआ बी [बुसिका] यव आदि का कडगर, भूसा (दे २, १०३)।

बुह पु [बुध] १ ग्रह-विशेष, एक ज्योतिष्क देव (सुर ३, ५३, धर्मवि २४)। २ वि. परिणत, विद्वान् (ठा ४, ४, सुर ३, ५३, धर्मवि २४, कुमा, पात्र)।

बुहप्पइ } देखो बहस्सइ (हे २, ५३, १३७,
बुहप्फइ } षड्, कुमा)।
बुहस्सइ }

बुहुक्ख सक [बुभुक्ष्] खाने की इच्छा करना। बुहुक्खइ (हे ४, ५, षड्)।

बुहुक्खा देखो बुभुक्खा (राज)।

बुहुक्खिअ वि [बुभुक्षित] भूखा (कुमा)।

बू सक [ब्रू] बोलना, कहना। बूम, बूया, बूहि (उत्त २५, २६, सूत्र १, १, ३, ६, १, १, १, २)। विंति, वेंति, वेमि, बुआ (कम्म ३, १२, महा, कप्प)। भूका, अन्नवी (उत्त २३, २१, २२, २५, ३१, ठा ३, २)। वक्तु. वित, वेंत (उप ७२८ टी. सुपा ३६०. विसे ११६)। सक्त. वूइत्ता (ठा ३, २) देखो बव, बुव।

बूर पु [बूर] वनस्पति-विशेष (याया १, १—पत्र ६, उत्त ३४, १६, कप्प, औप)।

०णालिया, ०नालिआ बी [०नालिका] बूर से भरी हुई नली (राज, भग)।

बूल वि [दे] मूक, वाचा-शक्ति से रहित (पिंग १६८ टी)।

बूह सक [बूह्] गुष्ट करना। बूहए (सूत्र २, ५, ३२)।

वे देखो वि (वजा १०, हे ३, ११६, १२०. पिंग)। ०आसी (अप) बी [०अशीति] बयासी, ८२ (पिंग)। ०इदिय वि [०इन्द्रिय] ल्वा और जीभ ये दो ही इन्द्रियवाला प्राणी (ठा १, भग, स ८३, जी १५)। ०हिय [द्वयाहिक] दो दिन का (जीवस ११६)।

वेंट देखो वेंट (महा)।

वेंत देखो वू।

वेंदि देखो वे-इदिय (पच ५, ५६)।

वेट्ट देखो विट्ट (ओषभा १७४)।

वेड } पु [दे] नौका, जहाज (दे ६, ६५,
वेडय } सुर १३, ५०)।

वेडा } बी [दे] नौका, जहाज (उप
वेडिया } ७२८ टी. सिरि ३८२, ४०७,
वेडी } आ १२, धम्म १२ टी), 'पाणीहि जलं दारइ अरित्तदेहि वेडिब्ब' (धर्मवि १२२)।

वेड्डा बी [दे] शम्भु, दाढी-मूँछ के वाल (दे ६, ६५)।

वेदोणिय वि [द्वैदोणिक] दो द्रोण का, द्रोण-द्वय-परिमित, 'कप्पइ मे वेदोणियाए कसपाईए हिरणभरियाए सववहरित्तए' (उवा)।

वेभेल पुं [वेभेल] विन्ध्याचल के नीचे का एक संनिवेश (भाग ३, २—पत्र १७१)।

वेमासिय वि [द्वैमासिक] दो मास का, दो महीने का सन्धय रखनेवाला (पठम २२, २८)।

वेलि बी [दे] स्फूणा, खूँटा (दे ६, ६५, पात्र)।

वेल्ल देखो विल्ल (प्राक ५)।

वेल्लग पु [दे] वैल, वलीवदं (भावम)।

वेस अक [विश, स्था] बैठना, अतल भोक्खामि ति वेसए भुणए य तह चैव' (ओष ५७१)।

वेसक्खिअ न [दे] द्वेष्यत्व, रिपुता, कुरमनाई (दे ७, ७६ टी)।

वेसण न [दे] वचनीय, लोकापवाद, लोक-निन्दा (दे ७, ७५ टी)।

वेहिम वि [दे. द्वैधिक] दो टुकड़े करने योग्य, खण्डनीय (दस ७, ३२)।

वोंगिल्ल वि [दे] १ भूपित, अलकृत। २ पु आटोप, आडम्बर (दे ६, ६६)।

वोंटण न [दे] चूडक, स्तन का अग्र भाग (दे ६, ६६)।

वोंड न [द] १ चूडक, स्तन वृत्त (दे ६, ६६)। २ फल-विशेष, कपास का फल (औप, तदु २०)। ३ य न [ज] सूती वज्र, सूती कपडा (सूत्र २, २, ७३, औप)।

वोंद न [दे] मुख, मुँह (दे ६, ६६)।

वोंदि बी [दे] १ रूप। २ मुख, मुँह (दे ६, ६६)। ३ शरीर, देह (दे ६, ६६, एएह १, १, कप्प, औप, उत्त ३५, २०, स ७१२. विसे ३१६१, पव ५५, पचा १०, ४)।

वोंदिया बी [दे] शाखा (सूत्र २, २, ४६)।

वोकड } पु [दे] खाग, बकरा, गुजराती में
वोकड } 'वोकडो' (ती २, दे ६, ६६)।

बी ०डी (दे ६, ६६ टी)।

वोक्स पुं [वोक्स] १ अनार्य देश-विशेष (पव २७४)। २ वरुणसंकर जाति-विशेष, निषाद से अश्विनी की कुंसि मे उत्पन्न (सुष ३, ४)।

वोक्सालिय पु [दे] तन्तुवाय, 'कोट्टागकुलाणि वा गामरक्खकुलाणि वा वोक्सालियकुलाणि वा' (आचा २, १, २, ३)।

वोक्कार देखो बुक्कार (सुर १०, २२१)।

वोक्किय न [वूत्कृत] गर्जन, गर्जना (पठम ५६, ५४)।

वोगिल्ल वि [दे] चितकवरा, 'फसल सबलं सार किम्मोर चित्तल च वोगिल्ल' (पात्र)।

वोट्ट सक [दे] उच्छिष्ट करना, छूटा करना। गुजराती मे 'वोट्ट', 'र्यखीए रयणिवर चरति वोट्ट ति अन्नमाईय' (सुपा ४६१)।

वोड वि [दे] १ धार्मिक, धर्मिष्ठ। २ तक्षण, युवा (दे ६, ६६)। ३ मुण्डित-मस्तक 'एमेव अड्ड वोडो', गुजराती में 'वोडो' (पिड २१७)।

६)। भवि. भिदिस्सति (आचा २, १, ६६, वि ५३२)।

भिन्न वि [भिन्न] १ विदारित, खरिडत (एयाया १, ८, उव, भग, पाप्र, महा)। २ प्रस्फुटित, स्फोटित (ठा ४, ४, परह २, १)। ३ अन्य विसदृश, विलक्षण (ठा १०)। ४ परित्यक्त, उचिभक्त, 'जीवजठ भावओ भिन्न' (बृह १, आव ४)। ५ ऊन, कम, न्यून (भग)। ६ कहाँ ली [कथा] मैथुन-सबद वात, रहस्यालाप (ओष ६६)। ७ पडवाइय वि [पिण्डपातिक] स्फोटित अन्न आदि लेने की प्रतिज्ञावाला (परह २, १—पत्र १००)। ८ मास पु [मास] पचीस दिन का महीना (जीत)। ९ मुहुत्त न [मुहुत्त] अन्तर्मुहुत्त, न्यून मुहुत्त (भग)।

भिष्प पु [भीष्म] १ स्वनाम-ख्यात एक कुत्सवीय क्षत्रिय, गागेय, भीष्म पितामह। २ साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, भयानक रस। ३ वि भय-जनक, भयकर (हे २, ५४, प्राक ६५, कुमा)।

भिम्भल वि [विह्वल] व्याकुल (हे २, ५८, ६०, प्राक २४, कुमा, वज्जा १५६)।

भिम्भलण न [विह्वलन] व्याकुल बनाना (कुमा)।

भिम्भिस अक [भास् + यङ् = वाभास्य] अत्यन्त दीपना। वक्त्र भिम्भिसमाण, भिम्भिसमीण (एयाया १, १—पत्र ३८, राय वि ५५६)।

भिमोर पु [दे हिमोर] हिम का मध्य भाग (?) (हे २, १७४)।

भियग देखो भयग (सण)।

भिलग पु [दे] अक्षर। देखो भिलिज (सूत्र कृताग सूत्र २८५ चूर्ण)।

भिलगा देखो भिलुगा (दस ६, ६२)।

भिलिग सक [दे] अभ्यग करना, मालिश करना। भिलिगेज (आचा २, १३, २, ४, ५, निचू १७)। वक्त्र भिलिगत (निचू १७)। प्रयो भिलिगावेज (निचू १७) वक्त्र भिलिगावत (निचू १७)।

भिलिग } पु [दे] धान्य-विशेष, मसूर
भिलिगु } (कम्प, पचा १०, ७३)।

भिलिज पु [दे] अभ्यग, आपाद-मस्तक-तैल-महन (सूत्र १, ४, २, ८ टी)।

भिलुग पु [दे. भिलुङ्क] हिंसक पक्षी (राय १२४)।

भिलुगा ली [दे] फटी हुई जमीन, भूमि की रेखा—फाट (आचा २, १, ५, ५)।

भिल्ल पुं [भिल्ल] १ अनार्य देश-विशेष (पत्र २७४)। २ एक अनार्य जाति (सुर २, ४, ६, ३४, महा)।

भिल्लमाल पु [भिल्लमाल] स्वनाम ख्यात एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (विवे ११४)।

भिल्लयई ली [भिल्लतकी] भिलारवा का पेड़ (उप १०३१ टी)।

भिल्लिअ वि [भिल्लित] खरिडत, तोडा हुआ, 'पचमहव्ययतुगो पायारो भिल्लिओ जेण' (उव)।

भिस देखो भास = भास्। भिसइ (हे ४, २०३, षड्)। वक्त्र भिसंत, भिसमाण, भिसमीण (पठम ३, १२७, ७५, ३७, एयाया १, १, औप, कुमा, एयाया १, १, वि ५६२)।

भिस सक [प्लुष्] जलाना (प्राक ६५, घात्वा १४७)।

भिस सक [भायय्] डराना। भिसइ, भिसेइ (प्राक ६४)।

भिस न [भृश] १ अत्यन्त, अतिशय, अतिशयित, 'गलतभिसभिनदेहे य' (पिड ५=३, उप ३२० टी, सत्त ६१, भवि)।

भिस देखो विस (प्राक १५, परण १, सूत्र २, ३, १८)। २ कन्द्य पु [कन्दक] एक प्रकार की खाने की मिष्ट वस्तु (परण १७—पत्र ५३३)। ३ मुणाली ली [मृणाली] कमलिनी (परण १)।

भिसअ पु [भिषज्] १ वैद्य, चिकित्सक (हे १, १८, कुमा)। २ भगवान् मल्लिनाथ का प्रथम गणधर (पत्र ८)।

भिसत देखो भिस = भास्।

भिसत न [दे] अर्थ (दे ६, १०५)।

भिसग देखो भिसअ (एयाया १, १—पत्र १५४)।

भिसण सक [दे] फँकना, डालना। भिसणेमि (गा ३१२)।

भिसमाण देखो भिस = भास्।

भिसरा ली [दे] मत्स्य पकडने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

भिसाव सक [भायय्] डराना। भिसावेइ (प्राक ६४)।

भिसिया } ली [दे वृषिका] आसन-विशेष,
भिसिगा } ऋषि का आसन (दे ६, १०५, भग, कुप्र ३७२, एयाया १, ८, उप ६४८ टी, औप, सूत्र २, २, ४८)।

भिसिण देखो भिसण भिसिणेमि (गा ३१२ अ)।

भिसिणी ली [विसिनी] कमलिनी, पक्षिनी (हे १, २३८, कुमा, गा ३०८, काप्र ३१, महा, पाप्र)।

भिसी ली [वृषी] देखो भिसिया (पाप्र)।

भिसोल न [दे] नृत्य-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५)।

भिह } अक [भी] डरना। भिहइ (षड्)।
भी } क. भेअव्व (सुपा ५८४)।

भी ली [भी] १ भय, 'नो दंडभी डडं समार-भेज्जासि' (आचा)। २ वि. डरनेवाला, मोह (आचा)।

भीअ वि [भीत] डरा हुआ (हे २, १६३, ४, ५३, पाप्र, कुमा, उवा)। ३ भीय वि [भीत] अत्यन्त डरा हुआ (सुर ३, १६५)।

भीइ ली [भीति] डर, भय (सुर २, २३७, सिरि ८३६, प्रासू २४)।

भीइअ वि [भीत] डरा हुआ (उप ६४०)।

भीइर वि [भेत्] डरनेवाला, 'ता मरणभीइरं विसज्जेह म, पव्वईस्स' (वसु)।

भीड [दे] देखो भिड। संक. भीडिचि (अप) (भवि)।

भीडिअ [दे] देखो भिडिय (सुपा २६२)।

भीतर [दे] देखो भित्तर (कुमा)।

भीम वि [भीम] १ भयकर, भीषण (पाप्र, उव, परह १, १, जी ४४, प्रासू १४४)।

२ पु एक पाण्डव, भीमसेन (गा ४४३)।

३ राक्षस-निकाय का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। ४ भारतवर्ष का भावी सारतर्वा प्रतिवासुदेव, 'अपराइय य भीमे महाभीमे य सुग्गीवे' (सम १५४)।

५ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लकापति

भ

भ भुं [भ] १ श्रोत्र-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप, प्रामा) । २ पिगल-प्रसिद्ध आदि-गुण और दो ह्रस्व अक्षरों की सना, भगण (पिंग) । ३ न नक्षत्र (सुर १६, ४३) । ०आर पु [कार] १ 'भ' अक्षर । २ भगण (पिंग) । गण पुं [गण] भगण (पिंग) ।

भइ देखो भव = भू ।

भइ ली [भृत्ति] वेतन, तनखाह (याया १, ८—पत्र १५०, विपा १, ४, उवा) । देखो भुइ ।

भइअ वि [भक्त] १ विभक्त (धावक १८५, सम ७६) । २ खरिडत, 'अगुनसखासखप्प-एसभइय पुळो पयर' (पच २, १२, औप) । ३ विकल्पित (वव ६) ।

भइअ न [भक्त] भागाकार (वव १) ।

भइअ
भइअव्व } देखो भय = भज् ।

भइअ } वि [भृत्तिक] कर्मकर, नौकर,
भइअ } चाकर (राय २१) ।

भइगि } ली [भगिनी] वहिन, स्वसा
भइगिआ } (सुपा १५, स्वप्न १५, १७,
भइणी } विपा १, ४, प्राप् ७८) कुल
२३५, कुमा) । ०वइ पु [पति] वहनोई
(सुपा १५, ५३२) । ०सुअ पु [सुअ]
भागिनेय, भानजा (सुपा १७) । देखो
बाहिणी ।

भइरव वि [भैरव] १ भयंकर, भीषण, भय-जनक (पात्र, सुपा १८२) । २ पुं नाट्यादि-प्रसिद्ध एक रस; भयानक रस । ३ महादेव, शिव । ४ महादेव का एक अवतार । ५ राग-विशेष; भैरव राग । ६ नद-विशेष (हे १, १५१, प्राप्) । देखो भैरव ।

भइरवी ली [भैरवी] शिव-पत्नी, पार्वती (गउड) ।

भइरहि पु [भगीरथि] सगर ब्रह्मर्षी का एक पुत्र, भगीरथ (पचम ५, १७५) ।

भइल वि [दे] भया, जाल (रमा ११) ।

भउम्हा (शौ) देखो भमुहा (पि २५१) ।

भउहा (अप) देखो भमुहा (पिंग) ।

भएयव्व देखो भय = भज् ।

भकार पु [भङ्कार] भनकार, अव्यक्त आवाज विशेष (उप ५ ८६) ।

भंकारि वि [भङ्कारिन्] भनकार करनेवाला (सण) ।

भग पु [भङ्ग] १ भांगना, खण्ड, खण्डन (श्रोत्र ७८८, प्राप् १७०, जी १२, कुमा) । २ प्रकार, भेद, विकल्प (भग, कम्म ३, ५) । ३ विनाश (कुमा, प्राप् २१) । ४ रचना-विशेष, 'तरगरगतभग—' (कप्प) । ५ परा-जय । ६ पलायन (पिंग) । ०रय न [रत] मेधुन-विशेष (वज्जा १०८) ।

भग पु [भृङ्ग] आर्य देश-विशेष, जिसकी राजधानी प्राचीन काल में पावापुरी थी (इक) ।

भग (अप) देखो भग = भन (पिंग) ।

भगरय पु [भृङ्गरज, भृङ्गरक] १ पौधा विशेष, भृङ्गराज, भंगरा, भगरैया । २ न भंगरा का फूल (वज्जा १०८, सुपा ३२४) ।

भंगा ली [भङ्गा] १ वनस्पति-विशेष, पाट, कुष्ठा, 'कम्पइ एणगयाए वा एणग्घीए वा पच वत्याइ धारितए वा परिहरेत्तए वा, तं जहा—जगिए भगिए साएए पोत्तिए तिरीड-पट्टए याम पचमए' (ठा ५, ३—पत्र ३३८) । २ नाश-विशेष, '—पडहहुडु कुडु कु-क्कामेरीभगापट्टुदिभूरिवज्जभडतुमुल—' (विक्र ८७) ।

भगि ली [भङ्गि] १ प्रकार, भेद (हे ४, ३३६, ४११) । २ व्याज, छल, वहाना, 'सहिभगिभयिअसन्भाविसावराहाए' (गा ६१३) । ३ विच्छिन्न, विच्छेद (राज) । ४ ली देश विशेष, 'पावा भगी, य' (पच २७५, विचार ४६) ।

भगिअ न [भङ्गिक, भाङ्गिक] १ भग-भय, एक तरह का बख, पाट का बना हुआ कपडा (ठा ३, ३, ५, ३—पत्र १३८, कस) । २ शास्त्र-विशेष, 'जोगतिगसवि भगियसुत्ते किरिया जओ भणिया' (चैद्य २४५) ।

भगिल वि [भङ्गवन्] प्रकारवाला, भेद-पतित, 'पडमभंगिला' (सवीच ३२) ।

भंगी ली [भङ्गी] देखो भगि (हे ४, ३३६, गा ६१३, विचार ४६) ।

भगी ली [भृङ्गी] वनस्पति-विशेष,—१ भंग, विजया । २ अतिविपा, अतिस का गाछ (परण १—पत्र ३६, परण १०—पत्र ५३१) ।

भगुर वि [भङ्गुर] १ स्वयं भांगनेवाला, विनरवर, विनाश-शील, 'तडिडडाडवरभगुराड हो विखयसोक्खाइ' (उप ६ टी, परह १, ४, सुर १०, १८, स ११४, धर्मस ११७, विवे ११४) । २ कुटिल, बक्र, 'कुडिल वक भगुर' (पात्र) ।

भङ्गा देखो भत्या (राज) ।

भंज सक [भंज्] १ भांगना, तोड़ना । २ पलायन कराना, भगाना । ३ पराजय कराना ४ विनाश करना । भजइ, भजए (हे ४ १०६, षड्, पि ५०६) । भवि, भविस्स (पि ५३२) । कर्म सज्जइ (भग, महा) वड्. भजत (गा १६७, सुपा ५६०) क्वक्क भज्जत, भज्जमाण (से ६, ४, सुर १०, २१७, स ६३) । सक्क, भजिअ भजिउ, भजिऊण, भजिऊणं, भजेऊ (नाट, पि ५७६, महा, पि ५८५, मह भजिउउ (अप) (हे ४, ३६५) । हे भजित्तए (याया १, ८), भजणह (श हे ४, ४४१ टि) ।

भजअ } वि [भञ्जक] भांगनेवाला,
भजग } करनेवाला (गा ५५२, परह ४) । २ पु वृक्ष, पेड़, 'भजगा इव सति नो चयति' (आचा) ।

भजण न [भञ्जन] १ भग, खण्डन ३८, सुर १०, ६१) । २ विनाश (३७६, परह १, १) । ३ वि, भजन न वाला, तोड़नेवाला, विनाशक, 'भवभ (सिरि ५४६), 'रिडसगभंजणे' (कु ली ०णी (गा ७४५) ।

भजणा ली [भञ्जना] ऊपर देखो, 'वि वयारम- (१२ मा-) रास्स भजणा । बुद्धणस्स' (विसे ३४६६, निव्व १) ।

उत्त ६, ३, पि ५०७, हे २, १५, कुमा, प्राक ३४)। हेक मुजित्तए, भोत्तुं, भोत्तए (पि ५७८, हे ४, २१२, आचा), भुजण (अप) (कुमा)। क् भुज्, भुजि-यव्व, भुजेयव्व, भोत्तव्व, भुत्तव्व, भोज्, भोग् (तदु ३३, धर्मवि ४१, उप १३६ टी, आ १६, सुपा ४६५, पिडभा ४५, सम्मत २१६, णाया १, १, पउम ६४, ६४, हे ४, २१२, सुपा ४६५, पउम ६८, २२, दे ७, २१, श्रौष २१४, उप पृ ७५, सुपा १६३, भवि)।

भुजग वि [भोजक] भोजन करनेवाला (पिड १२३)।

भुजण देखो भुज् = भुज्।

भुजण न [भोजन] भोजन (पिड ५२१)।

भुजणा ली ऊपर देखो (पव १०१)।

भुजय देखो भुजग (सण)।

भु जाव सक [भोजय्] ? भोजन कराना। २ पालन कराना। ३ भोग कराना। भुजावेइ (महा)। कवक भुंजाविज्जत (पउम २, ५)। सक भु जाविऊण, भुंजावित्ता (पि ५८२)। हेक भु जावेउ (पचा १०, ४८ टी)।

भु जावय वि [भोजक] भोजन करानेवाला (स २५१)।

भु जाविअ वि [भोजित] जिसको भोजन कराया गया हो वह (धर्मवि ३८, कुप्र १६८)।

भु जिअ देखो भुज् = भुज्।

भु जिअ देखो भुत्त (भवि)।

भुजिर वि [भोक्त्] भोजन करनेवाला (सुपा ११)।

भुड पुखी [दे] सूकर, वराह, गुजराती मे 'भुड' (दे ६, १०६)। ली 'डी', 'डिणी' (दे ६, १०६ टी, भवि)।

भु डीर [दे] ऊपर देखो (दे ६, १०६)।

भु भत न [दे] मद्य-पात्र (कम्म १, ५२)।

भु हडि (अप) देखो भूमि (हे ४, ३६५)।

भुफ् अक [वुक्] भूकना, श्वान का बोलना। भुक्इ (गा ६६४ अ)।

भुफण पु [दे] ? श्वान, कुत्ता। २ मद्य मादि का मान (दे ६, ११०)।

भुक्खिअ न [वुक्खित्] श्वान का शब्द (पात्र, पि २०६)।

भुक्खिर वि [वुक्खित्] भूकनेवाला (कुमा)।

भुक्खा ली [दे वुमुक्खा] भूख, क्षुधा (दे ६, १०६, णाया १, १—पत्र २८, महा, उप ३७६, आरा ६६, सम्मत १५७)।

°लु वि [°वत्] भूखा (धर्मवि ६६)।

भुक्खिअ वि [दे वुमुक्खित्] भूखा, क्षुधातुर (पात्र, कुप्र १२६, सुपा ५०१, उप ७२८ टी, स ५८३, वै २६)।

भुगुभुग अक [भुगभुगाय्] 'भुग' 'भुग' आवाज करना। वक्क भुगुभुगेत (पउम १०५, ५६)।

भुग वि [भुग्] ? मोडा हुआ, वक्र, कुटिल (णाया १, ८—पत्र १३३, उवा)। वि. भग्, हटा हुआ (णाया १, ८)। ३ दग्, जला हुआ, 'कि मग्ग जीविणं एवविहपर-भवग्गिभुग्गाए' (उप ७६८ टी)। ४ भूना हुआ, 'चणउव्व भुग्' (कुप्र ४३२)।

भुज (अप) देखो भुज्। भुजइ (सण)।

भुजग देखो भुअग (भवि)।

भुजग देखो भुअग = भुजग (धर्मवि १२४)।

भुज् देखो भुज् भुजइ (षड्)।

भुज्ज पुं [भूर्ज] ? वृक्ष-विशेष की छाल (कप्पु, उप पृ १२७, सुपा २७०)। °पत्त, °वत्त न [°पत्र] वही अर्थ (प्रावम, नाट विक्र ३३)।

भुज्ज देखो भुज्।

भुज्ज वि [भूयस्] प्रभूत, अनल्प (श्रौप, पि ४१४)।

भुज्जिय वि [दे भुग्] ? भूना हुआ धान्य। २ पु धाना, भूना हुआ यव (परह २ ५—पत्र १४८)।

भुज्जो अक [भूयस्] फिर, पुन (उवा, सुपा २७२)।

भुण्ण पु [अण्] ? ली का गर्भ। २ बालक, शिशु (सखि १७)।

भुत्त वि [भुक्त्] ? भक्षित (णाया १, १, उवा, प्रासू ३८)। २ जिसने भोजन किया हो वह, 'ते भायरो न भुत्ता' (सुख १, १५, कुप्र १२)। ३ सेवित। ४ अनुभूत, 'अम्म

ताय मए भोगा भुत्ता विसफलोवमा' (उत्त १६, ११, णाया १, १)। ५ न. भक्षण, भोजन, 'हासभुत्तासियाणि य' (उत्त १६, १२)। ६ विश-विशेष (ठा ६)। °भोगि वि [°भोगिन्] जिसने भोगो का सेवन किया हो वह (णाया १, १)।

भुत्तवत्त वि [भुत्तवत्] जिसने भोजन किया हो वह (पि ३६७)।

भुत्तव्व देखो भुज्।

भुत्ति ली [भुक्त्ति] ? भोजन (अच्छ १७, अज्क ८२)। २ भोग (सुपा १०८)। ३ आजीविका के लिए दिया जाता गांव, क्षेत्र आदि गिरास, 'उज्जेणी नाम पुरी दिन्ना तत्स य कुमारभुत्तीए' (उप २११ टी, कुप्र १६६)। °वाल पु [°पाल] गिरासदार (धर्मवि १५४)।

भुत्तु वि [भोक्त्] भोगनेवाला (आ ६, सबोध ३५)।

भुत्तूण पु [दे] भृत्य, नौकर (दे ६, १०६)।

भुत्थल्ल पुं [दे] बिल्ली को फेंका जाता भोजन (कप्पु)।

भुम देखो भम = भ्रम्। भुमइ (हे ४, १६१, सण)। सक भुमिवि (अप) (सण)।

भुमं } ली [भ्रू] भौं, भ्रौं के ऊपर
भुमगा } की रोम राजि (भग, उवा, हे २,
भुमया } १६७, श्रौप, कुमा, पात्र, पव
भुमा } ७३)।

भुमिअ देखो भमिअ = भ्रान्त, 'भुमिअणू' (कुमा)।

भुमिअ (अप) देखो भूमि (पिण)।

भुरुडिआ ली [दे] शिवा, श्रृगाली, सिया-रिन (दे ६, १०१)।

भुरुडिय } वि [दे] उद्धूलित, धूलि-लित्त,
भुरुकुडिअ } 'धूलिभुरुडियपुत्तेहि परिणया वि-
भुरुहुडिअ } तए ततो' (सुपा २२६, दे ६,
१०६), 'भुइभुर (? ह) कुडियगो' (कुप्र २६३, सूत्र क्णं वृणीं गा० २८२)।

भुल्ल अक [भ्रश्] ? च्युत होना। २ गिरना। ३ भूलना, 'भुल्लति ते मणा मग्गा हा पमाओ डुरतओ' (आत्म १६, हे ४, १७७)।

(पञ्च ८४, ४, सुपा ३७०, श्याया १, १०, सुर १४, ३४, श्रा २७) ।

भक्ख पुं [भक्ष] भक्षण, भोजन; 'भो कीर खोरसक्करवक्खामक्खं करहि ताव' (सुपा २६७) ।

भक्ख देखो भक्ष = भक्ष्य ।

भक्ख पुन [भक्ष्य] खण्ड खाद्य, चीनी का बना हुआ खाद्य द्रव्य, मिठाई (सुज्ज २० टी) ।

भक्खग वि [भक्षक] भक्षण करनेवाला (कुप्र २६) ।

भक्खण न [भक्षण] १ भोजन (परएण २८) । २ वि खानेवाला; 'सव्वभक्खणो' (श्रा २८) ।

भक्खणया स्त्री [भक्षणा] भक्षण, भोजन (उवा) ।

भक्खर पु [भक्कर] १ सूर्य, रवि (उत्त २३, ७८, लहुअ १०) । २ अग्नि, वहि । ३ अर्क वृक्ष (चड) ।

भक्खराभ न [भक्कराभ] १ गोत्र-विशेष, जो गौतम गोत्र की शाखा है । २ पुत्री, उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

भक्खावण न [भक्षण] खिलाना (उप १५० टी) ।

भक्खि वि [भक्खिन्] खानेवाला (सौप) ।

भक्खिक्खय वि [भक्खित्त] खाना हुआ (भवि) ।

भक्खेय्य देखो भक्ख = भक्ष्य ।

भग पुन [भग] १ ऐश्वर्य । २ रूप । ३ स्त्री । ४ यश, कीर्ति । ५ धर्म । ६ प्रयत्न, 'इत्सरियक्खसिरिजसव्वम्मपयत्ता मया भगामिक्का' (विसे १०४८, चेइय २८८) । ७ सूर्य, रवि । ८ माहात्म्य । ९ वैराग्य । १० मुक्ति, मोक्ष । ११ वीर्य । १२ इच्छा (कम्प-टी) । १३ ज्ञान (प्राप्ता) । १४ पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र (अणु) । १५ स्त्री योनि, उत्पत्ति-स्थान (परह १, ४—पत्र ६८, सुज्ज १०, ८) । १६ देव-विशेष, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का अविद्यता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३, सुज्ज १०, १२) । १७ युवा श्रीर अण्ड-कोश के बीच का स्थान (वह ३) । 'दत्त पु

[दत्त] नृप-विशेष (हे ४, २६६) । 'व देखो वत (भग, महा) । 'वई स्त्री [वती] १ ऐश्वर्यादि-सम्पन्ना, पूज्या (पडि) । २

भगवती-सूत्र, पंचिर्वा जैन अग्र-ग्रन्थ (पञ्च ५, १२५) । वत वि [वत्] ऐश्वर्यादि-गुण-सम्पन्न । २ पुं परमेश्वर, परमात्मा (कम्प, विसे १०४८, प्राप्ता) ।

भगदर पुं [भगन्दर] रोग विशेष—युवा के भीतरी भाग में होनेवाला एक प्रकार का फोडा (श्याया १, १३, विपा १, १) ।

भगदरि वि [भगन्दरिन्] भगन्दर रोगवाला (श्रा १६, सबोध ४३) ।

भगदरिअ वि [भगन्दरिअ] ऊपर देखो (विपा १, ७) ।

भगदल देखो भगदर (राज) ।

भगिणी देखो वहिणी (श्याया १, ८, कम्प, कुप्र २३६, महा) ।

भगिरहि } पु [भगीरथि] सगर चक्रवर्ती
भगीरहि } का एक पुत्र, भगीरथ (पञ्च ५, १७६, २१५) ।

भग्ग वि [भग्ग] १ खरिडत, भाँगा हुआ (सुर २, १०२, द ४६, उवा) । २ पराजित । ३ पलायित, भागा हुआ, 'जइ भग्गा पारक्का' (हे ४, ३७६, ३५४, महा, वव २) । 'इ पु [जित्] क्षत्रिय परिव्राजक-विशेष (सौप) ।

भग्ग वि [दे] लिप्त, पोता हुआ (दे ६, ६६) ।

भग्ग न [भाग्य] नसीब, दैव (सुर १३, १०५) ।

भग्गव पु [भार्गव] १ ग्रह-विशेष, शुक्र ग्रह (पञ्च १७, १०८) । २ ऋषि-विशेष (समु १८१) ।

भग्गवेस न [भार्गवेश] गोत्र-विशेष (सुज्ज १०, १६ टी, इक) ।

भग्गिअ (अप) । देखो भग्ग = भग्न (पिपा) ।

भच्च पु [दे] भागिनेय, भातजा (वड) ।

भच्चिअ वि [भर्त्सित] तिरस्कृत (दे १, ८०, कुमा ३, ८६) ।

भज देखो भय = भज् । वड भजत, भजेंत, भजमाण, भजेमाण (पड) ।

भज्ज सक [भ्रज्ज] पकाना, भुनाना । भज्जति, भज्जेति (सुप्रनि ८१, विपा १, ३) । वड, भज्जत, भज्जेत (पिड ५७४, विपा १, ३) ।

भज्ज देखो भज (भावा २, १, १, २) ।

भज्ज देखो भय = भज् ।

भज्जत देखो भंज ।

भज्जण } न [भ्रज्जन] १ भुनन, भुनाना
भज्जणय } (परह १, १, अनु ५) । २ भुनने का पात्र (सुप्रनि ८१, विपा १, ३) ।

भज्जमाण देखो भज्ज ।

भज्जा स्त्री [भार्या] पत्नी, स्त्री (कुपा, प्राप् ११६) ।

भज्जि स्त्री [भर्जिका] देखो भज्जिआ ।

भज्जिअ देखो भग्ग = भग्न, 'तच्छिण्ण वा छिवादि अभिक्कतभज्जिय पेहाए' (भावा २, १, १२) ।

भज्जिअ वि [भृष्ट, भर्जित] भुना हुआ, पकाया हुआ (गा ५५७, भावा २, १, १, ३, विपा १, २, उवा) ।

भज्जिआ स्त्री [भर्जिका] १ भाजी, शाक वेद, पत्राकार तरकारी (पव २५६) । २ पय्यदन, मार्ग-भोजन (कल्पभाष्य गा० ३६१८) ।

भज्जिम वि [भ्रज्जिम] भुनने योग्य (भावा २, ४, २, १५) ।

भज्जिर वि [भङ्कत्] भाँगेवाला, 'फारफल भारभज्जिरसाहासयसकुलो महासाही' (वर्मवि ५५, सण) ।

भज्जेत देखो भज्ज = भ्रज्ज् ।

भट्ट पुं [भट्ट] १ मनुष्य-जाति-विशेष, स्तुति-पाठक की एक जाति, भाट, 'जयजयसद्वक्करंतसुभट्ट' (सिदि १५५, सुपा २७१, उप वृ १२०) । २ वेदाभिन्न परिडत, ब्राह्मण, विप्र (उप १०३१ टी) । ३ स्वामित्व, मालिकपन, मालिकियत (प्रति ७) ।

भट्टारक } पु [भट्टारक] १ पूज्य, पूजनीय
भट्टारक } (भाव ३, महा) । २ नाटक की भाषा में राजा (प्राङ् ६५) ।

भट्टि देखो भत्तु = भत्तु (ठा ३, १, सम ८६, कम्प, स १४४, प्रति ३, स्वप्न १५) ।

भट्टिअ पु [दे] विष्णु, श्रीकृष्ण (हे २, १७४, दे ६, १००) ।

भट्टिणी स्त्री [भर्त्री] स्वामिनी, मालिकिनी (स १३४) ।

भट्टिणी स्त्री [भट्टिनी] नाटक की भाषा में वह रानी जिसका अभिषेक न किया गया हो (प्रति ७) ।

(इक, ठा २, ३—पत्र ८४) । २ राजा कृणिक का पट्ट-हस्ती (भग १७, १) ।
 १ गण्डपह पु [१नन्दप्रभ] भूतानन्द इन्द्र का एक उत्पात-पर्वत (राज) । १ वाय देखो
 १ वाय (विसे ५५१, पव ६२ टी) ।

भूअण्ण पु [दे] जोती हुई खल-भूमि में किया जाता यज्ञ (दे ६, १०७) ।

भूआ स्त्री [भूता] १ एक जैन साध्वी, महर्षि स्थूलभद्र की एक भगिनी (कप्प, पडि) ।
 २ इन्द्राणी की एक राजधानी (जीव ३) ।

भूइ स्त्री [भूति] १ सपत्ति, धन, दौलत, 'ता परदेस गतु विढवित्ता भूरिभूइपव्मार' (सुर १, २२३, सुपा १४८) । २ भस्म, राख, 'जारमसाणसमुभवभुवसुहप्फससिज्जिरणीए' (गा ४०८, स ६, गडड) । ३ महा-देव के अग की भस्म, 'भूइभूसिय हरसरीर व' (सुपा १४८, ३६३) । ४ वृद्धि (सूअ १, ६, ६) । ५ जीव-रक्षा (उत्त १२, ३३) ।
 १ कम्म पुन [१कर्मन्] शरीर आदि की रक्षा के लिए किया जाता भस्मलेपन-सूत्रवधनादि (पव ७३ टी, बृह १) । १ पण्ण, १ पन्न वि [१प्रह] १ जीव-रक्षा की वृद्धिवाला (उत्त १२, ३३) । २ ज्ञान की वृद्धिवाला, अनन्त-ज्ञानी (सूअ १, ६, ६) । देखो 'भूई' ।

भूइद पु [भूतेन्द्र] भूतो का इन्द्र (पि १६०) ।

भूइद्वि वि [भूयिष्ठ] अति प्रभूत, अत्यन्त (विने २०३६, विरु १४१) ।

भूइहा स्त्री [भूतेष्टा] चतुर्दशी तिथि (प्राक) ।

भूईं देखो भूइ (पव २—११२) । १ कम्मिय वि [१मिर्क] भूति-कर्म करनेवाला (श्रीप) ।

भूओ अ [भूयस्] १ फिर से, पुन (पउम ६८, २८, पच २, १८) । २ बारवार, फिर फिर, 'भूओ य अहिलसत' (उप ६५१) ।

१ गार पु [१कार] कर्म-बन्ध का एक प्रकार, थोड़ी कर्म-प्रकृति के बन्ध के बाद होनेवाला अधिक-प्रकृति-बन्ध (पच ५, १२) ।

भूओद पु [भूतोद] समुद्र-विशेष (सुज १६) ।

भूओवघाइय वि [भूतोपघातिन् १क] जीवो की हिसा करनेवाला (सम ३७, श्रीप) ।

भूइडी (अप) देखो भूमि (हि ४, ३६५ टि) ।

भूण देखो भुण्ण (सखि १७, सम्मत् ८६) ।

भूज देखो भुज्ज = भूर्ज (प्राक २६) ।

भूप देखो भू-व (वव १) ।

भूमआ देखो भुमया (प्राप्र) ।

भूमणया स्त्री [दे] स्थगन, आच्छादन (वव १) ।

भूमि स्त्री [भूमि] १ पृथिवी, धरती (पउम ६६, ४८, गडड) । २ क्षेत्र (कुमा) । ३ स्थल, जमीन, जगह, स्थान (पाअ, उवा, कुमा) । ४ काल, समय (कप्प) । ५ माल, मजिला, तला, 'सत्तभूमिय पासायभरण' (महा) । १ कप पु [१कम्प] भू-कम्प (पउम ६६, ४८) । १ गिह, १ घर न [१गृह] नीचे का घर, भुंइघरा, तहखाना (आ १६, महा) ।

१ गोयरिय वि [१गोचरिक] स्थलचर, मनुष्य आदि (पउम ५६, ५२) । स्त्री १ री (पउम ७०, १२) । १ च्छत्त न [१च्छत्र] वनस्पति-विशेष (दे) । १ तल न [१तल] घरा-गृह, भूतल (सुर २, १०५) । १ देव पु [१देव] ब्राह्मण (मोह १०७) । १ फोड पु [१स्फोट] वनस्पति-विशेष (जो ६) । १ फोडी स्त्री [१स्फोटी] एक प्रकार का जहरीला जन्तु, 'पासवण कुणमाणो दट्ठो गुञ्जम्मि भूमि-फोडीए' (सुपा ६२०) । १ भाग पु [१भाग] भूमि प्रदेश (महा) । १ रुइ पुन [१रुइ] भूमिस्फोट, वनस्पति-विशेष (आ २०, पव ४) । १ वइ पु [१पति] राजा (उप पृ १८८) । १ वाल पु [१पाल] राजा (गडड) । १ सुअ पु [१सुत] मगल-ग्रह (मृच्छ १४६) । १ हर देखो १ घर (महा) । देखो भूमी ।

भूमिआ स्त्री [भूमिका] १ तला, मजिला, माल (महा) । २ नाटक में पात्र का देशान्तर-ग्रहण (कप्प) ।

भूमिद पु [भूमीन्द्र] राजा, नरपति (सम्मत् २१७) ।

भूमिपिसाय पुं [दे भूमिपिशाच] ताल वृक्ष, ताड का पेड़ (दे ६, १०७) ।

भूमी देखो भूमि (से १२, ८८; कप्प; पिड ४४८, पउम ६४, १०) । तुडयकूड न [१तुडयकूट] एक विद्यावर-नगर (इक) । १ भुयग पु [१भुज्ज] राजा (मोह ८८) ।

भूमीस पु [भूमीश] राजा (आ १२) ।

भूमीसर पु [भूमीश्वर] राजा (सुपा ५०७) ।

भूयिट्ठ देखो भूइट्ठ (हास्य १२३) ।

भूरि वि [भूरि] १ प्रचुर, अत्यन्त, प्रभूत (गडड, कुमा, सुर १ २४८, २, ११४) ।

२ न स्वर्ण, सोना । ३ घन, दौलत (सार्ध ८४) । १ स्सव पु [श्रवस्] एक चन्द्र-वशीय राजा, भूरिश्रवा (नाट—वेणी ३७) ।

भूस सक [भूषय्] १ सजावट करना । २ शोभाना, अलंकृत करना । भूसेमि (कुमा) । वक्क भूसयत (२भा) । क्क भूस (२भा) ।

भूसण न [भूपण] १ अलंकार, गहना (पाअ, कुमा) । २ सजावट । ३ शोभा-करण (पएह २, ४, सण) ।

भूसा स्त्री [भूपा] ऊपर देखो (दे ३, ८, कुमा) ।

भूसिअ वि [भूपित] मरिडित, अलंकृत (गा ५२०, कुमा, काल) ।

भूहरी स्त्री [दे] तिलक-विशेष (सिरि १०२२) ।

भे अ [भोस्] आमन्त्रण-सूचक अव्यय (श्रीप) ।

भेअ पुन [भेद] १ प्रकार, 'पुढविभेआइ इच्चाई' (जो ४, ५) । २ विशेष, पार्थक्य (ठा २, १, गडड, कप्प) । ३ एक राज-नीति, फूट, 'दाएमाणोवयारेहि सामभेआइएहि य' (प्रासू ६७), 'सामदडभेयवप्पयाएणीइ-सुप्पउत्तणयविहिन्नु' (णाय १, १—पत्र ११) । ४ घाव, आघात, 'वड्ढु ति वम्मह-विइएणसरप्पसारा ताए पआसइ ललु' चिअ चित्तभेओ' (कप्प) । ५ मण्डल का अत्रान्त-राल, बीच का भाग, 'पडिवत्तीओ उदए तह अत्यमणोपु य । भेयवा? (घा)ओ कएएणला

मुहुत्ताए गतीति य ॥' (सुज १, १) ।

६ विच्छेद, पृथकरण, विदारण (श्रीप, अणु) । १ कर वि [१कर] विच्छेद-कर्ता (श्रीप) । १ घाय पु [१घात] मडल के बीच में गमन (सुज १, १) । १ समावन्न वि [१समापन्न] भेद-प्राप्त (भग) ।

१ पडिवत्तीओ उदए तह अत्यमणोपु य । भेयवा? (घा)ओ कएएणला

मुहुत्ताए गतीति य ॥' (सुज १, १) ।

६ विच्छेद, पृथकरण, विदारण (श्रीप, अणु) । १ कर वि [१कर] विच्छेद-कर्ता (श्रीप) । १ घाय पु [१घात] मडल के बीच में गमन (सुज १, १) । १ समावन्न वि [१समापन्न] भेद-प्राप्त (भग) ।

१ पडिवत्तीओ उदए तह अत्यमणोपु य । भेयवा? (घा)ओ कएएणला

मुहुत्ताए गतीति य ॥' (सुज १, १) ।

६ विच्छेद, पृथकरण, विदारण (श्रीप, अणु) । १ कर वि [१कर] विच्छेद-कर्ता (श्रीप) । १ घाय पु [१घात] मडल के बीच में गमन (सुज १, १) । १ समावन्न वि [१समापन्न] भेद-प्राप्त (भग) ।

१ पडिवत्तीओ उदए तह अत्यमणोपु य । भेयवा? (घा)ओ कएएणला

मुहुत्ताए गतीति य ॥' (सुज १, १) ।

१६७, प्रासू १६) । २ सुवर्ण, सोना । ३ मुस्तक, गोया, नागरनोया (हे २, ८०) । ४ दो उपवास (सवोष ५८) । ५ देव-विमान विशेष (सम ३२) । ६ शरासन, मूठ (शाया १, १ टी—पत्र ४३) । ७ भद्रासन, आसन-विशेष (रायग) । ८ वि, साधु, सरल, भला, सज्जन । ९ उत्तम, श्रेष्ठ (भग, प्रासू १६, सुर ३, ४) । १० सुख-जनक, कल्याण-कारक (शाया १, १) । ११ पु हाथी की एक उत्तम जाति (ठा ४, २—पत्र २०८, महा) । १२ भारतवर्ष का तीसरा भावी बलदेव (सम १५४) । १३ अगविद्या का जानकार द्वितीय रुद्र पुरुष (विचार ४७३) । १४ तिथि-विशेष—द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि (सुज १०, १५) । १५ छन्द-विशेष (पिंग) । १६ स्वनाम-ख्यात एक जैन आचार्य (महानि ६, कण्ठ) । १७ व्यक्ति-शाक नामक (निर १, ३, भाव १, घम्म) । १८ भारतवर्ष का चौबीसवां भावी जिनदेव (पव ७) । १९ गुप्त पु [गुप्त] स्वनाम-प्रसिद्ध एक जैनाचार्य (रादि, सार्व २३) । २० गुप्तिय न [गुप्तिक] एक जैन मुनि-कुल (कण्ठ) । २१ जस पु [यशास्] १ भगवान् पाषाण का एक गणेश्वर (ठा ८—पत्र ४२६) । २ एक जैन मुनि (कण्ठ) । ३ जसिय न [यशास्क] एक जैन मुनि-कुल (कण्ठ) । ४ नंदि पु [नन्दिन्] स्वनाम-ख्यात एक राज-कुमार (विपा २, २) । ५ बाहु पु [बाहु] स्वनाम-प्रसिद्ध प्राचीन जैनाचार्य और शिल्पकार (कण्ठ, एदि) । ६ मुत्था जी [मुत्ता] वनस्पति-विशेष, भद्रमोथा (पण्य १) । ७ वया जी [पदा] नक्षत्र-विशेष (सुर १०, २२४) । ८ साल न [शाल] मेघ पर्वत का एक वन (ठा २, ३, इक) । ९ सेण पु [सेन] १ धरणेन्द्र के पत्नी सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १, इक) । २ एक श्रेष्ठी का नाम (भाव ४) । ३ स न [स] नगर-विशेष (इक) । ४ सण न [सन] आसन-विशेष, सिंहासन (शाया १, १, पण्य १, ४, पाम, श्रौप) ।

भद्रवारु न [भद्रवारु] देववारु, देवदार की लकड़ी (उत्तनि ३) ।

भद्रव^० पु [भद्रपद] मास-विशेष, मासो भद्रवय } का महीना (वजा ८२, सुर ३, १३८) ।

भद्रसिरी ली [दे] श्रीखरड, चन्दन (दे ६, १०२) ।

भद्रा जी [भद्रा] १ रावण की एक पत्नी (पञ्च ७४, ६) । २ प्रथम बलदेव की माता (सम १५२) । ३ तीसरे चक्रवर्ती की जन्मी (सम १५२) । ४ द्वितीय चक्रवर्ती की ली (सम १५२) । ५ मेघ के पूर्व सचक पर्वत पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) । ६ एक प्रतिमा, व्रत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६४) । ७ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) । ८ तिथि-विशेष—द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि (सवोष ५४) । ९ छन्द-विशेष (पिंग) । १० कामदेव श्रावक की भार्या का नाम । ११ तुलनीपिता नामक उपासक की माता का नाम (उवा) । १२ एक सार्ववाहक ली का नाम (विपा १, ४) । १३ गोशालक की माता का नाम (भग १५) । १४ अहिंसा, दया (पण्य २, १) । १५ एक वापी (दीव) । १- एक नगरी (प्राङ्ग १) । १७ अनेक क्रियों का नाम (शाया १, ८, १६, भावम) ।

भद्राकरि वि [दे] प्रलम्ब, अति लम्बा (दे ६, १०२) ।

भद्रिआ ली [भद्रिका, भद्रा] १ शोभना, सुन्दर (ली) (शोधभा १७) । २ नगरी-विशेष (कण्ठ) ।

भद्रिजिया ली [भद्रिया, भद्रियिका] एक जैन मुनि-शाखा (कण्ठ) ।

भद्रिलपुर न [भद्रिलपुर] भारतवर्ष का एक प्राचीन नगर (अत ४, कुष ८४, इक) ।

भद्रुत्तरवर्द्धिसग न [भद्रोत्तरावतसरु] एक देव-विमान (सम ३२) ।

भद्रुत्तर^० ली [भद्रोत्तरा] प्रतिमा-भद्रोत्तर^० } विशेष, प्रतिज्ञा का एक श्रेष्ठ, भद्रोत्तरा } एक तरह का व्रत (श्रौप, अत ३०, पव २७१) ।

भद्र देखो भद्र (हे २, ८०, प्राङ्ग १७) ।

भद्रत } देखो भण = भण ।
भद्रमाण }

भद्रप देखो भसस = भसस्य (हे २, ५१, कुमा) ।

भम सक [भ्रम] भ्रमण करना, घूमना ।

भमह (हे ४, १६१, प्राङ्ग ६६) । कङ्क,

भमत, भममाण (गा २०२, ३८७, कण्ठ,

श्रौप) । सङ्क, भमिआ, भमिऊण (पङ्क,

गा ७६६) । कङ्क, भमिअउव (सुपा ६३८) ।

भम पु [भ्रम] १ भ्रमण (कुष ४) । २

भ्रान्ति, मोह, मिथ्या-ज्ञान (से ३, ४८,

कुमा) ।

भमग न [भ्रमग] लगातार एकतीस दिनों

का उपवास (सवोष ५८) ।

भमड देखो भम = भ्रम, 'भवमि भमड

एणुचिय' (विदे १०८, हे ४, १६१) ।

भमडिअ वि [भ्रान्त] १ धूना हुआ, फिटा

हुआ (स ४७३) । २ भ्रान्ति युक्त (कुमा) ।

देखो भमिअ ।

भमण न [भ्रमण] घूमना, चकराना । (दे

४६, कण्ठ) ।

भममुह पु [दे] आवृत्तं (दे, १०१) ।

भमया ली [भ्रू] भौह, नेत्र के ऊपर की

केश-पंक्ति (हे २, १६७, कुमा) ।

भमर पु [भ्रमर] १ मधुकर, भौरा (हे १,

२४४, कुमा, जी १८, प्रासू ११३) । २ पु

छन्द विशेष (पिंग) । ३ विट, रहीवाव

(कण्ठ) । ४ रुअ पु [रुच] अनाप देश-विशेष

(पव २७४) । ५ वलि ली [वलि] १

छन्द विशेष (पिंग) । २ भ्रमर-पंक्ति (राय) ।

भमरटेंटा ली [दे] १ भ्रमर की तरह अस्ति

गोलकवाली । २ भ्रमर की तरह अस्ति

आचरणवाली । ३ शुष्क ब्राह्मण के दागवाला

(कण्ठ) ।

भमरिया ली [भ्रमरिका] जलु-विशेष, ४

(जी १८) । देखो भमलिया ।

भमरी ली [भ्रमरी] ली-भ्रमर, भौरी (दे

नीचे देखो) ।

भमलिया ली [भ्रमरीका, शी] १ ।

भमली } के प्रकोप से होनेवाला रोग नि

चक्र, 'भमली पित्तुदयासो भमतमहिद

(वेद्य ४३५, पडि) । २ दायाँ

(राय) ।

भमस पु [दे] वृण-विशेष, ईल की तर

एक प्रकार का घास (दे ६, १०१) ।

भोइ वि [भोजिन्] भोजन करनेवाला (आचा, पिड १२०, जव) ।

भोइ देखो भोगि (सुपा ४०४, सबोध ५०, पिग, रभा) ।

भोइ } पु [दे भोगिन्, °क] १ ग्रामा-
भोइअ } व्यक्ष, ग्राम का मुखिया, गाँव का
नायक (वव ७, दे ६, १०८, उत १५, ६,
वृह १, ओषभा ४३, पिड ४३६, सुख १,
३, पव २६८, भवि, सुपा १६५, गा ५५६) ।
२ महेश (षड्) ।

भोइअ वि [भोगिक] १ भोग युक्त, भोगासक्त,
विलासी (उत १५, ६, गा ५५६) । २
भोग-वश में उत्पन्न (उत १५, ६) ।

भोइअ वि [भोजित] जिसको भोजन कराया
गया हो वह (सुर १, २१४) ।

भोइणी बी [दे भोगिनी] ग्रामाध्यक्षा की
पत्नी (पिड ४३६, गा ६०३, ७३७, ७७६,
निचू १०) ।

भोइया } बी [भोग्या] १ भार्या, पत्नी,
भोई } बी (वृह १, पिड ३६८) । २
वेर्या (वव ७) ।

भोई देखो भो° = भवत् ।

भोड देखो भुड (गा ४०२) ।

भोक्ख° देखो भुज ।

भोग पुन [भोग] १ स्वयं, रस आदि विषय,
उपभोग्य पदार्थ, 'खो भते भोगा अख्खी'
(भग ७, ७—पत्र ३१०), 'भोगभागाइ
भुजमाणे विहरह' (विपा १, २) । २ विषय-
सेवा (भग ६, ३३, श्रौप), 'भुजता बहुविहाइ
भोगाड' (सथा २७) । ३ मदन-व्यापार, काम-
चेष्टा, कामभोगे य खलु मए अप्पाहट्टं' (सूत्र
२, १, १२) । ४ विषयेच्छा, विषयामिलाप
(आचा) । ५ विषय-सुख, 'चइतु भोगाइ
प्रसासयाइ' (उत १३, २०), 'वुच्छा य
कामभोगा' (प्रासू ६६), 'अहिभोगे विय भोगे
निहणुव घण मलव कमलपि मन्ता' (सुपा
८३) । ६ भोजन, आहार (पचा ५, ४,
उज २०७) । ७ गुरु-स्थानीय जाति-विशेष,
एक क्षत्रिय-कुल (कम्प, सम १५१, ठा ३,
१—पत्र ११३, ११४) । ८ अमात्य आदि
उरु-स्थानीय लोक, गुरु-वश में उत्पन्न (श्रौप) ।

६ शरीर, देह (तट्ट २०) । १० सर्प की
फणा (सुपा) । ११ सर्प का शरीर (दे ६,
८६) । °करा देखो भोगकरा (इक) । °कुल
न [°कुल] पूज्य-स्थानीय कुल-विशेष (पि
३६७) । °पुर न [°पुर] नगर-विशेष
(आवम) । °पुरिस पु [°पुरुष] भोग-तत्पर
पुरुष (ठा ३, १—पत्र ११३, ११४) ।

°भागि वि [°भागिन्] भोग-शाली
(पठम ५६, ८८) । °भूम वि [°भूम]
भोग-भूमि में उत्पन्न (पठम १०२, १६६) ।
°भूमि बी [°भूमि] देवकुक्ष आदि अकर्म-
भूमि (इक) । °भाग पुन [°भोग] भोगाहं
शब्दादि-विषय, मनोज्ञ शब्दादि (भग ७, ७,
विपा १, ६) । °मालिगी बी [°मालिनी]
अधोलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी
देवी (ठा ८, इक) । °राय पु [°राज]
भोग-कुल का राजा (दस २, ८) । °वइया
बी [°वति का] लिपि-विशेष (परण १—
पत्र ६२), 'भोगवयता (?इया)' (सम ३५) ।
°वई बी [°वती] १ अधोलोक में रहनेवाली
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८, इक) । २ पक्ष
की दूसरी, सातवी और बारहवी रात्रि-तिथि
(सुज १०, १५) । °विस पुं [°विष] सर्प
की एक जाति (परण १—पत्र ५०) ।

भोगकरा बी [भोगकरा] अधोलोक में रहने-
वाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।

भोगा बी [भोगा] देवी-विशेष (इक) ।

भोगि पु [भोगिन्] १ सर्प, साँप (सुपा
३६६, कुप्र २६८) । २ पुन शरीर, देह
(भग २, ५, ७, ७) । ३ वि भोग-युक्त,
भोगासक्त, विलासी (सुपा ३६६, कुप्र
२६८) ।

भोगा }
भोच्चा }
भोच्छ° } देखो भुज ।
भोजा }

भोट्ट पु [भोटान्त] १ देश-विशेष, नेपाल
के समीप का एक भारतीय देश, भोटान ।
२ भोटान का रहनेवाला (पिग) ।

भोण देखो भोअण (पड्)

भोत्त देखो भुत्त (पड्, सुख २, ६, सुपा
४६५) ।

भोत्तए } देखो भुंज ।

भोत्तच्च }
भोत्ता देखो भू = भुव = भू ।

भोत्त वि [भोक्कट] भोगनेवाला (विसे
१५६६, दे २, ४८) ।

भोत्तु } देखो भुंज ।
भोत्तूण }

भोत्तूण देखो सुत्तूण (दे ६, १०६) ।

भोट्टण देखो भू = भुव = भू ।

भोम वि [भौम] १ भूमि-सम्बन्धी (सूत्र १,
६, १२) । २ भूमि में उत्पन्न (शोध २८,
जी ५) । ३ भूमि का विकार (ठा ८) ।

४ पु मगल-ग्रह (पात्र) । ५ पु नगराकार
विशिष्ट स्थान । ६ नगर (सम्म १५, ७८) ।

७ निमित्त शाख-विशेष, भूमि-कम्पादि से
शुभाशुभ फल बतलानेवाला । शाख (सम
४६) । ८ अहोरात्र का सत्ताईसवाँ मुहूर्त,
'अणव च भोग (? म)रितहे' (सुज १०,
१३) । °लिय न [°लीक] भूमि सम्बन्धी
मुषावाद (परह १, २) ।

भोमिज्ज देखो भोमेज्ज (सम २, उत २३६,
२०३) ।

भोमिर देखो भमिर, 'लब्भइ णाइअण्णते
सणारे सुभोमिरो जीवो' (सबोध ३२) ।

भोमेज्ज } वि [भौमेय] १ भूमि का विकार,
भोमेयग } पाथिव (सम १००, सुपा ४८) ।

२ पु एक देव-जाति, भवनपति नामक देव-
जाति (सम २) ।

भोरुड पु [दे] भारुड पत्नी (दे ६, १०८) ।

भोल सक [दे] ठगना (सुपा ५२२) ।

भोल वि [दे] अद्र, सरल चित्तवाला, गुजराती
में 'भोलु' । बी °ला, °लिया (महानि ६,
सुपा ५१४) ।

भोलग पु [भोलक] यज्ञ-विशेष, 'भोलगनामा
जक्खो अमिवधियसिद्धिदा अत्थि' (धर्मसं
१४१) ।

भोलव सक [दे] ठगना, गुजराती में
'भोलववु' । सक. भोलविड (सुपा २६४) ।

भोलवण न [दे] वञ्चन, प्रतापण (सम्मत्त
२२६) ।

भोलविय } वि [दे] वञ्चित, ठगा हुआ
भोलिअ } (कुप्र ४३५, सुपा ५२२) ।

(प्रवि १२, सुपा ७, पात्र) । २ भार, बोभ (से ३, ५, प्रासू २६, सा ६) । ३ गुक्तर कार्य, 'भरखित्तरणसमत्था' (विसे १६६ टी, ठा ४, ४ टी—पत्र २८३ । ४ प्रचुरता, अतिशय । ५ कर—राजदेय भाग की प्रचुरता, कर की युक्ता, 'करेहि य भरेहि य' (विपा १, १) । ६ पूर्णता, सम्पूर्णता, 'द्वय चिंताए निहं प्रलहतो निसिभरम्मि नरनाहो' (कुप्र ६) । ७ मध्य भाग । ८ जमावट, 'भरसुवगाए कोलापमोए, (स ५३०) ।

भरअ देखो भरह (षड्) ।

भरड पु [भरट] ब्रवी विशेष, एक प्रकार का बाबा, 'सिधभवणाहिगारिया भरडएण' (सम्मत १४५) ।

भरण न [स्मरण] स्मृति (गा २२२, ३७७) ।

भरण न [भरण] १ भरना, पुरना (गडड) । २ पोषण (गा ५२७) । ३ शिल्प-विशेष, वक्र में बेल-बूटा आदि आकार की रचना, 'सीवण तुक्षण भरण' (गच्छ ३, ७) ।

भरणी स्त्री [भरणी] नक्षत्र-विशेष (सम ८, इक) ।

भरध (शौ) देखो भरह (प्राक ८५) ।

भरह पु [भरत] १ भगवान् आदिनाथ का ज्येष्ठ पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती राजा (सम ६०, कुमा, सुर २, १३३) । २ राजा रामचन्द्र का छोटा भाई (पउम २५, १४) । ३ नाट्य-शास्त्र का कर्ता एक मुनि (सिदि ५६) । ४ वर्ष-विशेष, भारत वर्ष, 'इहेव जडुहीवे दीवे सत्त वासा पञ्चता, त जहा— भरहे हेमवए हरिवासे महाविदेहे रम्पए एरखणवए एरवए' (सम १२, ज १, पडि) । ५ भारतवर्ष का प्रथम भावी चक्रवर्ती (सम १५४) । ६ शबर । ७ तन्तुवाय । ८ शुभ-विशेष, राजा दुष्यन्त का पुत्र । ९ भरत के वंशज राजा । १० नट (हे १, ११४, षड्) । ११ देव-विशेष (ज ३) । १२ कूट-विशेष, पर्वत विशेष का शिखर (जं ४, ठा २, ३, ६) । १३ खिन्त न [क्षेत्र] भारतवर्ष (सण) । १४ वास न [वर्ष] भारतवर्ष, आर्यावर्ष (पह १, ४) । १५ सत्य न [शास्त्र] भरतमुनि-प्रणीत नाट्यशास्त्र (सिदि ५६) । १६ हिन्दु पु [गिधिय] १ संवत् भारतवर्ष का राजा,

चक्रवर्ती । २ भरत चक्रवर्ती (सण) । १७ हिन्दु पु [गिधिय] वही अर्थ (सण) ।

भरहेसर पुं [भरतेश्वर] १ सपूर्ण भारतवर्ष का राजा, चक्रवर्ती । २ चक्रवर्ती भरत (कुमा २, १७, पडि) ।

भरिअ वि [मृत, भरित] भरा हुआ, पूर्ण, व्याप्त (विपा १, ३, औप, धर्मवि १४४, काप्र १७४, हेका २७२, प्रासू १०) ।

भरिअ वि [स्सुत] याद किया हुआ, 'भरिअ लुडिभं सुमरिअ' (पात्र, कुमा, भवि) ।

भरिउल्लट्ट वि [दे भृतोल्लुठित] सर कर खाली किया हुआ (दे ७, ८१, पात्र) ।

भरिम वि [भरिम] भर कर बनाया हुआ (अणु) ।

भरिया (अप) देखो भारिया (कुमा) ।

भरिली स्त्री [भरिली] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (राज) ।

भरु पु [भरु] १ एक अनार्य देश । २ एक धर्मार्थ मनुष्य-जाति (इक) ।

भरुअच्छ पुं [भरुअच्छ] गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर जो आजकल 'भडौच' के नाम से प्रसिद्ध है (काल, मुनि १०८६६, पडि) ।

भरोच्छय न [दे] ताल का फल (दे ६, १०२) ।

भर देखो भर = स्मृ । भरइ (हे ४, ७४) । प्रयो, वक्र, भलावत (कुमा) ।

भर सक [भरु] सम्हालना । भलिज्जामु (सुपा ५४६) । भवि भलिस्वामि (काल) । कृ भलेयव्व (औप ३८६ टी) । प्रयो, सक्र भलाविकुण (सिदि ३१२, ५६६) ।

भरलंत वि [दे] स्थलित होता, गिरता (दे ६, १०१) ।

भरलाविअ वि [भालित] सौभाग्य हुआ, सम्हालने के लिये दिया हुआ (आ १६) ।

भरलि पु स्त्री [दे] कदाग्रह, हठ, 'असुलहमेच्छए जाह भलि ते नवि दूर गणति' (हे ४, ३५३, चड) ।

भरल पुं [भरल] १ भालू, रीछ (पह १, १) । २ पुन वक्र-विशेष, भाला, बरछी (गा ५०४, ५८५, ५६४) ।

भरल } वि [भरु] भला, उत्तम, श्रेष्ठ, भरलय } अच्छा (कुमा, हे ४, ३५३, भवि) । ३ च्त्तग, ४ प्यण न [त्वि] मलयनवी, भलाई (कुमा) ।

भरलय [भरलक] देखो भरल = मल (जप ५, ३०, सण आवम) ।

भरलाअय } पु [भरलात, क] १ कृ भरलातक } विशेष, मिलावा का पैठ (पण भरलाय } १, दे १, २३) । २ न मिलावा का फल (दे १, २३, ५, २६, पात्र) ।

भरलि स्त्री [भरलि] देखो भरली (कुमा) ।

भरलिभ पु स्त्री [भरलिव] भलाई, भद्रता (सुग १२३, कुप्र १०८) ।

भरली स्त्री [भरली] भाला, बरछी, अन्न-विशेष (सुर २, २८, कुप्र २७४, सुपा ५३०) ।

भरल्लु पु स्त्री [दे] भालू, रीछ (दे ६, ६६) ।

भरल्लुकी स्त्री [दे] शिवा, शृगाली (दे ६, १०१, सण), 'भरल्लुकी रुदिया विकृती' (सया ६६) ।

भरलोड पुन [दे] बाण का पुष्प, शर का अणु भाग, गुजराती में 'भालोड', 'कन्नायदि-यणगुणपुडुवीसतभलोडा' (सुर २, ७) ।

भव अक [भू] १ होना । २ सक प्राप्त करना । भवइ, भवए (कप्प, महा), भए (भा, ठा ३, १) । भूना भविसु (भा) । भवि भविस्सव, भविस्स (कप्प, भा, पि ५२१) । वक्र भवत (गडड ५८८), 'भूयमा-विभा (२भ)वमाण भाविहे' (कुप्र ४३७) । संक्र भविअ, भवित्ता, भविताण (प्रति ५७, कप्प, भा, पि ५८३), भइ (अप), (पिग) । कृ भवियव्व (णाय १, १, सुर ४, २०७, जव, भा, सुपा १६४) । देखो भव्व ।

भव पु [भव] १ संसार (ठा ३, १, उवा, भा, विपा २, १, कुमा, जी ४१) । २ संसार का कारण (सम्म १) । ३ जन्म, उत्पत्ति (ठा ४, ३) । ४ नरकादि योनि, जन्म-स्थान (आचा, ठा २, ३, ४, ३) । ५ महा-देव, शिव (पात्र) । ६ वि. हीनेवाला, भावो (ठा १) । ७ उत्पन्न, 'अणुयपुर नामेण तव्व भवो हं महाभाय' (सुपा ५८४) । ८ न देव-विमान-विशेष (सम २) । ९ जिण

मई स्त्री [दे] मदिरा, मारु (दे ६, ११३)।

मई स्त्री [मृगी] हरिणी, हरिण की मादा, हिरनी (गा २८७, से ६, ८०, दे ३, ४६, कुप्र १०)।

मई^० देखो मइ = मति । ^०म, ^०व वि [^०मत्] बुद्धिवाला (पि ७३, ३६६, उप १४२ टी)।

मईअ वि [मदीय] मेरा, अपना (षड्, कुमा, स ४७७, महा)।

मउ पु [दे] पर्वत, पहाड (दे ६, ११३)।

मउ } वि [^०मृदु, ^०क] कोमल, सुकुमार
मउअ } (हे १, १२७, षड्, सम ४१, सुर ३, ३७, कुमा)। स्त्री ^०उई (प्राक् २८, गउड)।

मउअ वि [दे] दोन, गरीब (दे ६, ११४)।

मउइअ वि [^०मृदुक्रित] जो कोमल बना हो (गउड)।

मउई देखो मउ = मृदु।

मउद पु [सुकुन्द] १ विष्णु, श्रीकृष्ण (राय)। २ वाद्य-विशेष, 'दुहुहिमउदमदल-तिलिमापमुदेण तूरसहेण' (सुर ३, ६८), 'महामउदसठाणसठिण' (भग)।

मउक्क देखो माउक्क = मृदुत्व (पड्)।

मउड पुन [सुकुट] शिरो-भूषण, किरोट, सिरपेंच (पव ३८, हे १, १०७, प्राप्र, कुमा, पाप्र, औप)।

मउड } पु [दे] धम्मिल्ल, कवरी, जूट,
मउडि } जूडा (पाप्र, दे ६, ११७)।

मउण देखो मोग (हे १, १६२, चड)।

मउर पुन [सुकुर] १ बाल-भूषण, फूल की कली, वीर (कुमा)। २ दर्पण, आईना, शीशा। ३ कुलाल-दरद। ४ वकुल का पेड। ५ मल्लिकान-वृक्ष। ६ कोली-वृक्ष। ७ अग्नि-पर्य-वृक्ष, चोरक (हे १, १०७, प्राक् ७)।

मउर } पु [दे] वृक्ष-विशेष, अपामार्ग,
मउरद } आगा, लउजीरा, चिरचिरा (दे ६, ११८)।

मउल देखो मउड = मुकुट (से ४, ५१)।

मउल पुन [सुकुल] थोड़ी विकसित कली, कलिका, बौर (रभा २६)। २ देह, शरीर। ३ आत्मा, 'मउल, मउली' (हे १, १०७, प्राप्र)।

मउल अक [सुकुलय्] सकुचना, सकुचित होना, 'मउलेंति एअणाइ' (गा ५)। वक्क मउलत, मउलित (से ११, ६२, पि ४६१)। मउलण न [सुकुलन] सकोच, 'ज चेअ मउलण लोअणण' (हे २, १८४, विसे ११०६, गउड)।

मउलाअ अक [सुकुलय्] १ सकुचना। २ सक सकुचित करना। वक्क, मउलाअत (नाट—मालती ५४, पि १२३)।

मउलाइय वि [सुकुलित] सकुचाया हुआ, सकोचित (वजा १२६)।

मउलाव देखो मउलाअ। कर्म. मउलाविलित (पि १२३)। वक्क, मउलावेत (पउम १५, ८३)।

मउलावअ वि [सुकुलायक] सकुचित करने-वाला, 'हरिसविसेसो वियसावओय मउलावओय अक्खीण' (गउड)।

मउलाविय देखो मउलाइय (उप पृ ३२१, सुपा २००, भवि)।

मउलि पुष्ठी [दे] हृदय रस का उच्छलन (दे ६, ११५)।

मउलि पु [सुकुलिन्] सर्प-विशेष (परह १, १—पत्र ८, परण १—पत्र ५०)।

मउलि पुष्ठी [मौलि] १ किरोट, मुकुट, शिरो-भूषण (पाप्र)। २ मस्तक, सिर (कुप्र ३८६, कुमा, अजि २२, अचु ३४)। ३ शिरो-वेष्टन विशेष, एक तरह की पगड़ी (पव ३८)। ४ चूडा, चोटी। ५ सयत केश। ६ पु अशोक वृक्ष। ७ स्त्री भूमि, पृथिवी (हे १, १६२, प्राक् १०)।

मउलिअ वि [सुकुलित] १ सकुचित (सुर ३, ४५, गा २२३, से १, ६५)। २ मुकुलाकार किया हुआ (औप)। ३ एकत्र स्थित (कुमा)। ४ मुकुल-युक्त, कलिका-सहित (राय)।

मउवी देखो मउई (हे २, ११३, कुमा)।

मऊर पुष्ठी [मयूर] पक्षि-विशेष, मोर (प्राप्र, हे १, १७१, राया १, ३)। स्त्री. ^०री (विपा १, ३)। ^०माल न [^०माल] एक नगर (पउम २७, ६)।

मऊरा स्त्री [मयूरा] एक रानी, महापद्म चक्रवर्ती की माता (पउम २०, १४३)।

मऊह पु [मयूख] १ किरण, रश्मि (पाप्र)। २ कान्ति, तेज। ३ शिखा। ४ शोभा (हे १, १७१, प्राप्र)। ५ राक्षस वश के एक राजा का नाम, एक लका-पति (पउम ५, २६५)।

मए सक [मदय्] मद-युक्त करना, उन्मत्त बनाना। वक्क, मएत (से २, १७)।

मएजारिस वि [माहश] मेरे जैसा, मेरे तुल्य, 'मएजारिसाण पुरिसाहमाण इमं चेवोचिय' (स ३३)।

म (अप) देखो म = मा (पड्, हे ४, ४१८, कुमा)। ^०कार पु [^०कार] 'मा' अन्वय (ठा १०—पत्र ४६५)।

मकड देखो मकड (आचा)।

मरुण पु [मत्कुण] खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष, गुजराती मे 'माकरण' (जी १६)।

मकण पुष्ठी [दे मर्कट] वन्दर, वानर। स्त्री ^०णी, 'सयमेव मंक्णीए धणोए त ककणी वडा' (कुप्र १८५)।

मकाइ पु [मङ्गाति] एक अन्तकृद् महर्षि (अत १८)।

मकार पु [मकार] 'म' अक्षर (ठा १०—पत्र ४६५)।

मक्रिअ न [मङ्कित] कूद कर जाना (दे ८, १५)।

मकुण देखो मकण = मत्कुण (दे, भवि)। ^०हस्थि पु [^०हस्तिन्] गण्डीपद प्राणि-विशेष (परण १—पत्र ४६)।

मंकुस [दे] देखो मगुस (गा ७८१)।

मख देखो मक्ख = अक्ष् । वक्क मखत (राज)।

मख पु [दे] अण्ड, वृषण (दे ६, ११२)।

मंख पुं [मङ्ख] एक भिक्षुक जाति जो चित्र-पट दिखाकर जीवन-निर्वाह करता है (राया १, १ टी, औप, परह २, ४, पिड ३०६, कप्प)। ^०फलय न [^०फलक] १ मख का तस्ला। २ निर्वाह-हेतुक चैत्य (पचा ६, ४५ टी)।

मखण न [अक्षण] १ मक्खन, 'मखण व सुकुमालकरचरणा' (उप ६४८ टी)। २ अभयंग, मालिश (सुर १२, ८)।

का पुत्र (पुत्र २६, ८७)। °वलय न [°वलय] जिन-देव का एक महाप्रातिहार्य, पीठ के पीछे रखा जाता दीप्ति-मंडल (सबोध २, सिरि १७७)।

भा } अक [भी] डरना, भय करना। भाइ, भाअ } भाइ, भाआमि (हे ४, ५३, षड्, महा, स्वप्न ८०), भादि (शौ) (प्राक् ६३), भायइ (सण)। भवि. भाइस्सदि, भाइस्स (शौ) (पि ५३०)। वक्र. भायत (कुमा)। क. भाइयव्य (परह २, २, स ५६२, सुपा ४१)।

भाअ देखो भा = भा। भाअदि (शौ) (प्राक् ६३)।

भाअ सक [भाय्य] डरना। भाअइ, भाअइ (प्राक् ६४), भाअसि (कपूर् २४)। वक्र. भायमाग (सुपा २४८)।

भाअ देखो भाव = भाव्य। क. भाअअव्य (नव २५)।

भाअ पुं [भाग] १ योग्य स्थान। २ एक अक्ष (से १३, ६)। ३ अक्ष, विभाग, हिस्सा (प्राक्, सुपा ४०७, पव—गाथा ३०, उवा)। भाग्य, नसीब (साधं ८०)। °धेअ,

भाअ पुन [°धेय] १ भाग्य, नसीब (से ११, ८३, स्वप्न ५१, हम्मोर १४, अमि ११७)। २ कर, राज-वेध। ३ दायद, शोदार, भाअहेओ, भाअहेअ (प्राक् ८८, १८—चैत ६०)। देखो भाग।

भाअ पु [दे] ज्येष्ठ भगिनी का पति (दे ६, २)।

देखो भाव (भवि)।

भाअव देखो भाअ = भाव्य। भाअवेअ (प्राक् ६४)।

भाइ देखो भागि, 'सारिब्व वधवहरणभाइणो जिण ए हति तइ विहुं' (अण ३२, उष ६८६ टी)।

भाइ } पुं [भाट] भाई, बन्धु (उप ५१६, भाइअ } महा, आवन)। बीया बी [द्वि-सीया] पर्व-विशेष, सैमाइच, कार्तिक शुक्ल-उत्तरीया तिथि (तो १६)। सुअ पु [सुव] नसीब (सुपा ४००)। देखो भाउ।

भाइअ वि [भाजित] १ विभक्त किया हुआ, बाटा हुआ (पिड २०८)। २ खरिब्त (वन २, १०)।

भाइअ वि [भीत] १ डरा हुआ। २ न. डर, भय (हे ४, ५३)।

भाइणिज्जा } पुं बी [भागिनेय] भगिनी-पुत्र, भाइणेअ } बहिन का लडका, भानजा (वम्म भाइणेज्जा १२ टी, नाट—रत्ना ८५, स २७०, गाय १, ८—पत्र १३२, पउम ६६, ३६, कुप्र ४४०, महा)। बी °ज्जी (पउम १७, ११२)।

भाइयव्य देखो भा = भी।

भाइर वि [भीरु] डरनेका (दे ६, १०४)।

भाइल्ल पुं [दे] हालिक, कर्पक, कृषीवल, किसान (दे ६, १०४)।

भाइल्ल वि [भागिन्, °क] भागीदार, साभीदार, अक्ष-भाही (सुअ २, २, ६३, परह १, २, ठा ३, १—पत्र ११३, गाय १, १४)। देखो भागि।

भाइहड न [दे] भ्रातृभाण्ड] भाई, बहिन आदि स्वजन, गुजराती मे 'भाबड' (कुप्र १५६)।

भाईरही बी [भागीरथी] गंगा नदी (गउड, हे ४, ३४७, नाट—विक्र २८)।

भाउ } पु [भाट] भाई, बन्धु (महा, भाउअ } सुर ३, ८८, पि ५५, हे १, १३१ उव)। °जाया, °ज्जाइया बी [°जाया] भौजाई, भाई की बी (दे ६, १०३, सुपा २६४)।

भाउअ देखो भाअ = (दे) (दे ६, १०२ टी)।

भाउअ न [दे] आपाठ मास मे मनाया जाता गौरी-पार्वती का एक उत्सव (दे ६, १०३)।

भाउग देखो भाउ (उप १४६ टी, महा)।

भाउज्जा बी [दे] भौजाई, भाई की पत्नी (दे ६, १०३)।

भाउराअण पु [भागुरायण] व्यक्ति-वाचक नाम (सुदा २२३)।

भापअव्य देखो भाअ = भाव्य।

भाग पु [भाग] १ अक्ष, हिस्सा (कुमा, जी २७, दे १, १६७)। २ अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, माहात्म्य, 'भागोचिता सत्ती स महा-भागो मह्यभावे ति' (विते १०५८)। ३ पूजा, भजन (सुअ १, ८, २२)। ४ भाग्य, नसीब, 'धन्ना-कययुता ह महत्तभागोवभोवि' (विते १०५८)। ५ पत्नार, भोगी

(राज)। ६ अचकार्य (सुअ १०, ३—पत्र १०४)। °धेअ, °धेज्जा °हेअ देखो भाअ-हेअ (पउम ६, ५७, २८, ८६, स १२, सुर १४, ६, पात्र)। देखो भाअ = भाग।

भागवय वि [भागवत्] १ भगवान् से सम्बन्ध रखनेवाला। २ भगवान् का भक्त (पउम ३१२)। ३ न अथ विशेष (एदि)।

भागि वि [भागिन्] १ भजनेवाला, सेवन करनेवाला, 'भारस्त भागी' (उव), 'किं पुण मरणपि न मे सजाय मदभगभागिस्त' (मुपा ५४७)। २ भागीदार, सामीदार, अक्ष भाही (प्रामा)।

भागिणेज्जा } देखो भाइणेज्जा (महा, कुप्र भागिणेय } ३७१)।

भागीरही देखो भाईरही (पात्र)।

भाज अक [भाज्] चमकना। वक्र. भाजत, भत (विते ३४४७)।

भाड पुन [दे] भाव, वह वडा बूढ़ा बहो अक्ष युना जाता है, भट्टो, 'जाया भाडमणा मग्गा उत्ततवालुया अहिय' (धपवि १०५, सण)।

भाडय न [भाटक] भावा, किराया (सुर ६, १५७)।

भाडिय वि [भाटक्ति] भाडे पर लिया हुआ, 'वोहित्य भाडिय वियड' (सुर १३, ३५)।

भाडिया } बी [भाटिका, °टी] भाव, भाडी } शुल्क, किराया, 'एक्काए देइ भाडि अलाहि सम रमेइ रयणीए', 'वित्त-सिणीए दाऊए इच्छिय भाडि' (मुपा ३८२; ३८३, उवा)। °कम्म न [°कम्मन्] बेल, गाडी आदि भाडे पर देने का काम—धन्ना, 'भाडियकम्म' (स ५०, था २२, पडि)।

भाग देखो भण = भण्। सक्र. भाणिकण, भाणिकण (पिड ६१५, उव)। क. भाणियव्य (ठा ४, २, सम ८४, मण उवा, कण, कोप)।

भाग देखो भायण (अध ६६५, हे १, २६७, कुमा)।

भाणिय वि [भाणित] १ पढ़ाया हुआ, पाठित, 'नाएत्तत्वाइ भाणिय' (सण

मठ वि [दे] १ शठ, लुचा, बदमाश । २ पु
बन्ध (दे ६, १११) ।

मड सक [मण्ड] भूषित करना, सजाना ।
मडइ (पड), मडति (पि ५५७) ।

मड सक [दे] १ आगे घरना । २ प्रारम्भ
करना, गुजराती मे 'माडवु', 'जो मडइ रण-
भरधुरहो खधु' (भवि) ।

मड पुन [मण्ड] रस, 'तयाणतर च ए
घयविहिपरिमाण करेइ, नन्नत्य सारइएण
गोधयमडेण' (जवा) ।

मडअ देखो मडव = मण्डप (नाट—शकु
६८) ।

मडअ } पु [मण्डक] खात्र-विशेष, मांडा,
मडग } एक प्रकार की रोटी (उप पृ ११५,
पव ४ टी, कुप्र ४३, धर्मवि ११६) ।

मडग वि [मण्डक] विभूषक, शोभा बढ़ाने-
वाला, 'ससि च जोइसमुहमडग' ।
(कप्प) ।

मडग न [मण्डन] १ भूषण, भूषा (गडड,
प्रासू १३२) । २ वि विभूषक, शोभा बढ़ाने-
वाला (गडड, कुमा) । ३ 'णी (प्रासू ६४) ।
'धाऽ' ली [धानी] आभूषण पहनानेवाली
दासी (गाया १, १—पत्र ३७) ।

मडल पु [दे मण्डल] धान, कुत्ता (दे ६,
११४, पात्र, स ३६८, कुप्र २८०, सम्मत्त
१६०) ।

मडल न [मण्डल] १ समूह, यूथ (कुमा,
गडड, सम्मत्त १६०) । २ देश (उप १४२
टी, कुप्र ४६, २८०) । ३ गोल, वृत्ताकार
पदार्थ (कुमा, गडड) । ४ गोल आकार से
वेष्टन (ठा ३, ४—पत्र १६६, गडड) । ५
चन्द्र-सूर्य आदि का चार-क्षेत्र (सम ६६,
गडड) । ६ सप्ताह, जगत् (उत्त ३१, ३,
४, ५, ६) । ७ एक प्रकार का कुष्ठ रोग ।
८ एक प्रकार की वृत्ताकार दाद—बहु (पिंड
६००) । ९ विम्ब, 'डज्झइ ससिमडलकलस-
दिएणकंठगह मयणी' (गडड) । १० सुभटो
का स्थान विशेष (राज) । ११ मण्डलाकार
परिभ्रमण (सुज्ज १, ७, स ३४६) । १२
इगित क्षेत्र (ठा ७—पत्र ३६८) । १३ पुं
नरकावास-विशेष (देवेन्द्र २६) । 'व वि
[वत्] मण्डल मे परिभ्रमण करनेवाला

(सुज्ज १, ७) । 'हिव पुं [धिप]
मण्डलाधीश (भवि) । 'हिवइ पु
[धिपति] वही अर्थ (भवि) ।

मडल पुन [मण्डल] थोड़ा का थुड़ समय का
आसन (वव १) । 'पवेस पु [प्रवेश]
एक प्राचीन जैन शास्त्र (एदि २०२) ।

मडलगा पुन [मण्डलाग्र] तलवार, खड्ग
(हे ३, ३४, भवि) ।

मडलय पुं [मण्डलक] एक माप, बारह
कर्म-माषको का एक बाँट (अणु १५५) ।

मडलि पु [मण्डलिन] १ मण्डलाकार चलता
वायु, चक्र-वात, बवडर (जो ७) । २ मण्ड-
लिक राजा, 'तेवोस तिथकरा पुव्वभवे
मडलिरायाणो हात्था' (सम ४२) । ३ सर्प
की एक जाति (परह १—पत्र ५१) । ४
न. गोत्र-विशेष, जो कौत्स गोत्र की एक
शाखा है । ५ पुत्री उस गोत्र मे उत्पन्न (ठा
७—पत्र ३६०) । 'पुरी ली [पुरी] नगर-
विशेष, गुजरात का एक नगर, जो आजकल
भी 'माडल' नाम से प्रसिद्ध है (सुपा ६५६) ।

मडलिअ वि [मण्डलित] मण्डलाकार बना
हुआ, 'मडलियचडकोदडमुक्कडोलिखडिय-
सिरेहि' (सुपा ४, वज्जा ६२, गडड) ।

मडलिअ वि [मण्डलिक, मण्डलिक] १
मण्डलाकारवाला । २ पु मंडल रूप से स्थित
पर्वत विशेष (ठा ३, ४—पत्र १६६, परह
२, ४) । ३ मण्डलाधीश, सामान्य राजा
(गाया १, १, परह १, ४, कुमा, कुप्र
१२०, महा) ।

मडली ली [मण्डली] १ पक्ति, श्रेणी, समूह
(से ५, ७६, गच्छ २, ५६) । २ अर्थ की
एक प्रकार की गति (से १३, ६६, महा) ।
३ वृत्ताकार मंडल—समूह (सबोध १७,
उव) ।

मडलीअ देखो मडलिअ = मण्डलिक, 'तह
तलवरसेणाहिवकोसाहिवमडलीयसामते' (सुपा
७३, ठा ३, १—पत्र १२६) ।

मडव पु [मण्डप] १ विश्राम-स्थान । २
वह्नी आदि से वेष्टित स्थान (जीव ३, स्वज
३६, महा, कुमा) । ३ स्नान आदि करने का
गृह, 'न्हाणमडवसि', 'भोयणमडवसि' (कप्प,
ओप) ।

मडव न [मण्डव्य] १ गोत्र-विशेष । २ पुत्री
उस गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

मडविआ ली [मण्डपिका] छोटा मण्डप
(कुमा) ।

मडव्यायण न [मण्डव्यायन] गोत्र-विशेष
(सुज्ज १०, १६, इक) ।

मडावण न [मण्डन] सजाना, विभूषित
कराना । 'धाई ली [धानी] सजानेवाली
दासी (आचा २, १५, ११) ।

मडावय वि [मण्डक] सजानेवाला (निचू ६) ।

मडि } वि [मण्डित] १ भूषित (कप्प,
मडिअ } कुमा) । २ पु भगवान् महावीर के
षष्ठ गणधर का नाम (सम १६, विसे
१८०२) । ३ एक चोर का नाम (धर्मवि
७२, ७३) । 'कुच्छि पुं [कुक्षि] चैत्य-
विशेष (उत्त २०, २) । 'पुत्त पु [पुत्र]
भगवान् महावीर का छठवाँ गणधर (कप्प) ।

मडिअ वि [दे] रचित, बनाया हुआ । २
विद्याया हुआ,
'ससारे हयविहिणा महिलाब्बेण मडिए पासे ।
वज्झति जाणमाणा अयाणमाणावि वज्झति ॥'
(रयण ८) ।

३ आगे घरा हुआ, 'मड मडिउ रणभरधुरहो
खधु' (भवि) । ४ आरब्ध, 'रणु मडिउ
कच्छाहिवेण ताम' (भवि, सण) ।

मडिल पु [दे] अपूप, पूआ, पक्वान-विशेष
(दे ६, ११७) ।

मडो ली [दे] १ पिधानिका, ढकनी (दे ६,
१११, पात्र) । २ अन्न का अन्न रस, मांड ।
३ माँडी, कलप, लेई (आव ४) । 'पाहुडिया
ली [प्राभृतिका] एक भिक्षा-दोष, अन्न के
माँड अथवा माँडी को दूसरे पात्र मे रखकर
दो जाती भिक्षा का ग्रहण (आव ४) ।

मंडुक } देखो मंडूअ (आ २८, परह १, १,
मंडुक } हे २, ६८, षड्, पात्र) ।

मंडुकलिया, ली [मण्डुकिका, 'की] १ ली
मंडुकिया } मेढक, भेकी, दादुरी (उप १४७
मंडुकी } टी, १३७ टी) । २ शाक-
विशेष, वनस्पति-विशेष (जवा, परण १—
पत्र ३४) ।

‘सो जेव देवलो गो देवसहस्सोवसोहिओ रम्मो ।
सुह विरहियाइ इरिह भावइ नरओवमो मज्झ ।’
(सुर ७, १६) ।

‘त चिय इम विमाण रम्म
मणिकणगरयणविच्छुरिय ।

सुमए मुक्कं भावइ
वडियालयसच्छह नाह ।’
(सुर ७, १७) ।

‘एम्वाहिं राहपओहरह ज भावइ तं होइ’
(हे ४, ४२०) ।

भाव पु [भाव] १ पदार्थ, वस्तु, ‘भावो वस्तु
पयर्थो’ (पात्र, विसे ७०, १६६२) । २

अभिप्राय, आशय (आचा, पचा १, १, प्रासू
४२) । ३ चित्त-विकार, मानस विकृति,

‘हावभावपललियविकखेवविलाससालिणीहिं’
(पएह २, ४—पत्र १३२) । ४ जन्म,

उत्पत्ति, पिंडो कज्जं पइसमयभावाउ’ (विसे
७१) । ५ पर्याय, धर्म, वस्तु का परिणाम,

द्रव्य की पूर्वापर अवस्था (पएह १, ३,
उत्त ३०, २३, विसे ६९, कम्म ४, १,
७०) । ६ घात्वर्थ-युक्त पदार्थ विवक्षित क्रिया

का अनुभव करनेवाली वस्तु, पारमार्थिक
पदार्थ (विसे ४९) । ७ परमार्थ, वास्तविक सत्य

(विसे ४९) । ८ स्वभाव, स्वरूप (अणु, एदि) ।

९ भवन, सत्ता (विसे ६०, गउड ९७८) ।

१० ज्ञान, उपयोग (आचू १, विसे ५०) ।

११ चेष्टा (आया १, ८) । १२ क्रिया,
घात्वर्थ (अणु) । १३ विधि, कर्तव्योपदेश,

‘भावाभावमणता’ (भग ४१—पत्र ९७६) ।

१४ मन का परिणाम (पचा २, ३३, उव,
कुमा ७, ५५) । १५ अन्तरंग बहुमान, प्रेम,
राग (उव, कुमा ७, ८३, ८५) । १६ भावना,

चिन्तन (गउड १२०४, संबोध २४) । १७
नाटक की भाषा में विविध पदार्थों का चिन्तक

परिडट (अभि १८२) । १८ आत्मा (भग १७,
३) । १९ अवस्था, दशा (कप्प) । २० केउ पु

[केलु] ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह-विशेष
(अ २, ३) । २१ थ्य पु [थ्य] तात्वर्थ,
रहस्य (स ६) । २२ न्युय वि [ञ] अभिप्राय को जाननेवाला (आचा: महा) ।
२३ पाण पु [प्राण] ज्ञान आदि मात्मा का अन्तरंग गुण (पएण १) । २४ सजय पु

[सयत] सच्चा, साधु (उप ७३२) । २५ साहु
पुं [साधु] वही अर्थ (भग) । २६ सच पु

[सच] वह आत्म-परिणाम, जिससे कर्म
का प्रागभन हो, ‘भासवदि जेण कम्म परि-
णामेण्णणो स विण्णो भावात्सवो’ (द्रव्य
२६) ।

भाव पुं [भाव] महान् वादी, समर्थ विद्वान्
(दस १, १ टी) ।

भावअ वि [भावक] होनेवाला (प्राह ७०) ।
देखो भावग ।

भावइआ ली [दे] धार्मिक-गृहिणी (दे ६,
१०५) ।

भावग वि [भावक] वासक पदार्थ, गुणाघायक
वस्तु (आचू ३) । देखो भावअ ।

भावउ पु [भावक] स्वनाम-ख्यात एक जैन
गृहस्थ (ती २) ।

भावण पु [भावन] १ स्वनाम-ख्यात एक
वणिक (पउम ५, ८२) । २ नीचे देखो
(संबोध २४, वि ६) ।

भावणा ली [भावना] १ वासना, गुणाधान,
संस्कार-करण (ओप) । २ अनुप्रेक्षा, चिन्तन ।
३ पर्यालोचन (ओपभा ३, उव, प्रासू ३७) ।

भावि वि [भाविन्] भविष्य में होनेवाला
(कुमा, सण) ।

भाविअ वि [दे] गृहीत, उपात्त (दे ६,
१०३) ।

भाविअ न [भाविक्] एक देव-विमान (सम
३३) ।

भाविअ वि [भावित] १ वासित (पएह २,
५, उत्त १४, ५२, भग, प्रासू ३७) । २
भाव-युक्त, ‘जिणपवयणत्तिव्वभाविमइत्तं’
(उव) । ३ शुद्ध, निर्दोष (इह १) । ४

वि [आत्मन्] १ वासित अन्त करणवाला
(ओप, आया १, १) । २ पु गृहूर्त-विशेष,
अहोरात्र का तेरहवां या अठारहवां गृहूर्त
(सुज १०, १३, सम ५१) । ३ पा ली

[आत्मा] भगवान् धर्मनाथ की मुख्य शिष्या
(सम १५२) ।

भाविदिअ न [भावेन्द्रिय] उपयोग, ज्ञान
(भग) ।

भाविअ वि [भाविन्, भविट] भविष्य में
होनेवाला, अवश्यमावी, ‘अग्रह भाविअदीहर-

पवासदुहिया मिलाएइ’ (सुपा ९), ‘एव्वत
रम्मि भाविरनियपिउणविरह्मिगदूमियमणएण’
(सुपा ७५) ।

भाविह वि [भाववत्] भाव-युक्त, पण
वीस भावणाइ भाविहो पचमहव्वयाइण’
(संबोध २४) ।

भाविस्स देखो भविस्स, ‘भाविस्ससुयपभवत
भावप्रालोयलोयण विमल’ (सुपा ८६) ।

भाउक वि [दे] वयस्य, मित्र (सक्ति ४७) ।

भाउग वि [भाउक] अर्थ के ससग की
भाउयु जिस पर असर हो सकती हो वह
वस्तु (ओप ७७३, संबोध ५४) ।

भास सक [भाष्] कहना, बोलना । भासइ,
भासति (भग, उव) । भवि भासिस्सामि
(भग) । वड्ढ भासंत, भासमाण (ओप,
भग, विपा १, १) । कवक भासिज्जमाण
(भग, सम ६०) । सक भासित्ता (भग) ।
क भासिअव्व (भग, महा) ।

भास सक [भास्] १ शोभना । २ लगना
मासूम होना । ३ प्रकाशना, चमकना । भास
(हे ४, २०३), भासइ, भासति, भासि
(मोह २६, अत्त ११०, सुर ७, १६२) ।
वड्ढ भासत (अचु ५४) ।

भास सक [भीपय्] डराना । भासइ (घाला
१४७) ।

भास पु [भास] १ पक्षि-विशेष (पएह १,
१, दे २, ६२) । २ वीरि, प्रकाश; ‘नव-
रिज्जइ कयावि । उकोसावरणम्मि वि जल
यच्छन्नकभासो व्व’ (विसे ४६८, भवि) ।

भास पु [अस्मन्] १ ग्रह-विशेष, ज्योतिष्क
देव-विशेष (अ २, ३, विचार ५०७) । २
स्म, राख (आया १, १, पएह २, ५) ।
३ रासि पु [राशि] ग्रह-विशेष (अ २, ३,
कप्प) ।

भास न [भाष्य] व्याख्या-विशेष, पव रड
टीका (चैत्य १, उप ३५७ टी, विचार ३५२,
सम्यक्त्वो ११) ।

भासं देखो भासा (कुमा) । १ णु वि [ह] भाषा के गुण-नोप का जानकार (धर्मत्त
६२५) । २ वि [वत्] वही अर्थ (सम
१, १३, १३) ।

मद पुं [मन्द] १ ग्रह-विशेष, शनिश्चर (सुर १०, २२४) । २ हाथी की एक जाति (ठा ४, २—पत्र २०८) । ३ वि अलस, धीमा, मृदु (पाम्र, प्रासू १३२) । ४ अल्प, थोडा (प्रासू ७१) । ५ मूर्ख, जड, अज्ञानी (सूअ १, ४, १, ३१, पाम्र) । ६ नीच, खल, 'मुहमेव अहीण तह य मदस्स' (प्रासू १६) । ७ रोग-ग्रस्त, रोगी (उत्त ८, ७) । ८ उणिण्या ली [पुण्यका] देवी विशेष (पंचा १६, २४) । ९ भग्ना वि [भाग्य] कमनसीव (सुपा ३७६, महा) । १० भाअ वि [भाग, भाग्य] वही अर्थ (स्वप्न २२, कुमा) । ११ भाइ वि [भागिन्] वही अर्थ (स ७५६, सुपा २२६) । १२ भाग देखो भाअ (सुर १०, ३८) ।

मद न [मान्य] १ बीमारी, रोग, 'न य मदेण मरई कोइ तिरिओ अह्व मणुओ वा' (सुपा २२६) । २ मूर्खता, बेवकूफी, 'बालस्स मदय वीय' (सूअ १, ४, १, २६) ।

मदक्ख न [मन्दाक्ष] लज्जा, शरम (राज) । मदग } न [मन्दक] गेय-विशेष, एक प्रकार } का गान (राज, ठा ४, ४—पत्र २८५) ।

मदर पु [मन्दर] १ पर्वत-विशेष, मेरु पर्वत (सुज ५, सम १२, हे २, १७४, कप्य, सुपा ४७) । २ भगवान् विमलनाथ का प्रथम गणधर (सम १५२) । ३ वानरद्वीप का एक राजा, मध्यकुमार का पुत्र (पउम ६, ६७) । ४ छन्द का एक भेद (पिंग) । ५ मन्दर-पर्वत का अघिष्ठायक देव (ज ४) । ६ पुर न [पुर] नगर-विशेष, (इक) ।

मदा ली [मन्दा] १ मन्द-स्त्री (वज्जा १०६) । २ मनुष्य की दश अवस्थाओं में तीसरी अवस्था—२१ से ३० वर्ष तक की दशा (तदु १६) ।

मदाइणी ली [मन्दाइनी] १ गंगा नदी, भागोरथी (पउम १०, ५०, पाम्र) । २ रामचन्द्र के पुत्र लव की ली का नाम (पउम १०६, १२) ।

मदाय ऋवि [मन्द] शनै, धीमे से, 'मदायं मदाय पवइयाए' (जीव ३) ।

मदाय न [मन्दाय] गेय-विशेष (ज १) । मंदार पुं [मन्दार] १ कल्पवृक्ष-विशेष (सुपा १) । २ पारिभद्र वृक्ष । ३ न. मन्दार वृक्ष का फूल, 'मदारदामरमणिजभूय' (कप्य, गउड) । ४ परिभद्र वृक्ष का फूल (वज्जा १०६) ।

मदिअ वि [मान्दिक] मन्दतावाला, मन्द, 'बाले य मदिए मूढे' (उत्त ८, ५) ।

मदिर न [मन्दिर] १ गृह, घर (गउड, भवि) । २ नगर-विशेष (इक, आचू १) ।

मदिर वि [मान्दिर] मन्दिर नगर का, 'सीह-पुरा सोहा वि य गीयपुरा मदिरा य बहुणाया' (पउम ५५, ५३) ।

मदीर न [दे] १ शृङ्खल, सांकल । २ मन्यान्-दण्ड (दे ६, १४१) ।

मदुय पु [दे. मन्दुक] जलजन्तु विशेष (पएह १, १—पत्र ७) ।

मदुरा ली [मन्दुरा] अश्व-शाला (मुपा ६७) ।

मदोदरी } ली [मन्दोदरी] १ रावण-पत्नी } (से १३, ६७) । २ एक वरिष्क-पत्नी (उप ५६७ धै) ।

मंदोशण (मा) । वि [मन्दोष्ण] अल्प गरम (प्राङ्ग १०२) ।

मधाउ पु [मान्धाउ] हरिश्चय का एक राजा (पउम २२, ६७) ।

मधादण पु [मन्धादण] मेघ, गाडर, 'जहा मधादण (? णे) नाम थिमिअ भुजती दण' (सूअ १, ३, ४, ११) ।

मधाय पु [दे] आढ्य, श्रीमत (दे ६, ११६) ।

मभीस (अप) । सक [मा + भी] डरने का निषेध करना, अभय देना । सक. मभीसिचि (भवि) ।

मभीसिय देखो माभीसिअ (भवि) ।

मंस पुन [मास] मास, गोश्त, पिशित, 'अयमाउलो मंसे अय अट्टे' (सूअ २, १, १६, आचा, ओधभा २४६, कुमा, हे १, २६) । २ इत्त वि [वत्] मास-नोलुप (सुख १, १५) । ३ खल न [खल] मास सुखाने का स्थान (आचा २, १, ४, १) । ४ चक्खु पुन [चक्खुस्] १ मास-मय चक्षु । २ वि. मास-मय चक्षुवाला, ज्ञान-चक्षु-रहित, 'अदित्से

मसक्खुणा' (सम ६०) । ३ साण वि [साण] मास-भक्षक (कुमा) । ४ सि, साण वि [साण] वही अर्थ (पउम १०५, ४४, महा), 'मसासिणस्स' (पउम २६, २७) ।

मंस न [मांस] फल का गर्भ, फल का गुदा (आचा २, १, १०, ५, ६) ।

मसल वि [मासल] पीन, पुष्ट, उपचित (पाम्र, हे १, २६, पएह १, ४) ।

मसी ली [मांसी] गन्ध-द्रव्य-विशेष, जटामासी (पएह २, ५—पत्र १५०) ।

मसु पुन [मसु] दाढी-मूँछ—पुरुष के मुख पर का बाल (सम ६०, औप, कुमा), 'मसू' (हे १, २६, प्राप्र), 'मसूइ' (उवा) ।

मसु देखो मस, 'मसूणि सिन्नपुव्वाइ' (आचा) ।

मसुडग न [दे, मासोन्दुक] मास-खण्ड (पिड ५८६) ।

मसुल्ल वि [मासवत्] मासवाला (हे २, १५६) ।

मकडेअ पु [मार्कण्डेय] ऋषि-विशेष (अभि २४३) ।

मकड पु [मर्कट] १ वानर, वनरा, बन्दर (गा १७१, उप पृ १८८, सुपा ६०६, दे २, ७२, कुप्र ६०, कुमा) । २ मकडा, जाल बनानेवाला क्रीडा (आचा, कस, गा ६३, दे ६, ११६) । ३ छन्द का एक भेद (पिंग) । ४ बन्ध पु [वन्ध] बन्ध-विशेष, नाराच बन्ध (कम्म १, ३६) । ५ साताण पु [सतान] मकडा का जाल (पडि) ।

मकडवध न [दे] शृङ्खलाकार ग्रीवा-भूषण (दे ६, १२७) ।

मकडी ली [मर्कटी] वानरी, वनरी (कुप्र ३०३) ।

मकल (अप) देखो मकड (पिंग) ।

मक्कार पुं [माकार] १ 'मा' वर्ण । २ 'मा' के प्रयोगवाली दण्डनीति, निषेध-सूचक एक प्राचीन दण्ड-नीति (ठा ७—पत्र ३६८) ।

मक्कुण देखो मक्कुण (पव २६२, दे १, ६६) ।

मकोड पु [दे] १ यन्त्र-गुम्फनार्थ राशि, जन्तर गठने के लिए बनाई जाती राशि (दे ६, १४२) । २ पुंजी. कीट-विशेष, चीटा, गुजराती में 'मकोडो', 'मकोडो' (निचू १, आचम, जी १६) । ली 'डा (दे ६, १४२) ।

भिन्तूण, भिंदिअ भिंदिऊण, भेत्तुआण, भेत्तण (रभा, उत ६, २२, नाट—विक् १७, पि ५८६, हे २, १५६, महा)। हेक्क भिंदिताए, भिन्तु, भेत्तु (पि ५७८, कप्प, पि ५७४)। क्क भिंदिउव्व (पएह २, १), भेअउव्व (से १०, २६)।

भिदण न [भेदन] खएडन, विच्छेद (सुर १६, ५६)।

भिदणया छी [भेदना] ऊपर देखो (सुर १, ७२)।

भिदिवाल (शौ) देखो भिंदिवाल (प्राक्क ८७)।

भिभल देखो भिब्भल (सुपा ८३, ३६५, पि २०६)।

भिंभलिय वि [विह वलित] विह्वल किया हुआ, 'ता गज्जह मायगो विक्कये य (? म) यपवाहंमिलिओ' (धर्मवि ८०)।

भिंभसार पु [भिंभसार] देखो भभसार (शौप)।

भिंभा छी [भिंभा] देखो भभा (राज)।

भिंभिसार पु [भिंभिसार] देखो भभसार (ठा ६—पत्र ४५८, पि २०६)।

भिंभी छी [भिंभी] वाद्य-विशेष, ढक्का (ठा ६ टी—पत्र ४६१)।

भिक्ख सक [भिक्ख] भोख मांगना, याचना करना। भिक्खइ (सबोध ३१)। वक्क भिक्खमाण (उत्त १४, २६)।

भिक्ख न [भैक्ख] १ भिक्षा, भोख। २ भिक्षा-समूह (प्रोधभा २१६, २१७), 'न कज्ज मम भिक्खेण' (उत्त २५, ४०)। ३ जीविअ वि [जीविक] भोख से निर्वाह करनेवाला, भिक्खमा (प्राक्क ६, पि ८४)।

भिक्खं देखो भिक्खा (पि ६७, कुप्र १८३, धर्मवि ३८)।

भिक्खण न [भिक्खण] भोख मांगना, याचना (धर्मस १०००)।

भिक्खा छी [भिक्खा] भोख, याचना (उत्त, सुपा २७७, पिग)। ४ यर वि [चर] भिक्षुक (कप्प)। ५ यरिया छी [चर्या] भिक्षा के लिये पर्यटन (आचा, शौप, प्रोधभा

७४, उवा)। ६ लाभिय पु [लाभिक] भिक्षुक-विशेष (शौप)।

भिक्खाग } वि [भिक्षाक] भिक्षा मांगने-
भिक्खाय } वाला, भिक्षा से शरीर-निर्वाह करनेवाला (ठा ४, १—पत्र १८५, आचा २, १, ११, १, उत ५, २८, कप्प)।

भिक्खु पुंछी [भिक्खु] १ भोख से निर्वाह करनेवाला; साधु, मुनि, संन्यासी, ऋषि (प्राचा, सम २१, कुमा, सुपा ३४६, प्रासू १६६), 'भिक्खएसीलो य तप्पो भिक्खु ति निदरिसिओ समए' (धर्मसं १०००)। २ बौद्ध संन्यासी, 'कम्म चय न गच्छइ चउव्विह भिक्खुसमयम्मि' (सुअनि ३१)। छी ०णी (आचा २, ५, १, १, गच्छ ३, ३१, कुप्र १८८)। ०पडिमा छी [प्रतिमा] साधु का अभिग्रह-विशेष, मुनि का व्रत-विशेष (भग, शौप)। ०पडिआ छी [प्रतिज्ञा] साधु का च्छेस, साधु के निमित्त, 'से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से ज पुण वर्यं जाणेआ असजए भिक्खु-पडियाए कीय वा, वीय वा रत्त वा' (आचा २, ५, १, ४)।

भिक्खु ड देखो भिच्छुंड (राज)।

भिक्खुंड देखो भिच्छुंड (अणु २४)।

भिखारि (अप) वि [भिक्षाकारिन्] भिखारी, भोख मांगनेवाला (पिग)।

भिगु देखो भिड (पत्रम ४, ८६, शोध ३७४)।

भिगुडि देखो भिडडि (पि १२४)।

भिष पु [भृत्य] १ दास, सेवक, नौकर (पाम, सुर २, ६२, सुपा ३०७)। २ वि. अक्खी तरह पोषण करनेवाला (विपा १, ७—पत्र ७५)। ३ वि भरणीय, पोषणीय (पएह १, २—पत्र ४०)। ०भाव पु [भाव] नौकरी (सुर ४, १५६)।

भिच्छं देखो भिक्खं (पि ६७)।

भिच्छा देखो भिक्खा (गा १६२)।

भिच्छुड वि [दे. भिक्षोण्ड] १ भिखारी, भिक्षा से निर्वाह करनेवाला। २ पुं बौद्ध साधु (आया १; १५—पत्र १६३)।

भिज्ज न [भेज] कर-विशेष, दण्ड-विशेष (विपा १, १—पत्र ११)।

भिज्जा देखो भिज्जा (ठा २, २—पत्र ७१, सम ७१)।

भिज्जिय देखो भिज्जिय (भग)।

भिज्जा छी [अभिध्या] गृद्धि, लोभ (कव)।

भिज्जिय वि [अभिधियत] लोभ का विषय, सुन्दर (भग ६, ३—पत्र २५३)।

भिट्ट सक [दे] भेंटना। कर्म: 'बहुविहभिट्ट एएहि भिट्टिच्चइ लद्धमारोहि' (सिरि ६०१)।

भिट्टण न [दे] भेंट, उपहार, गुजरती में 'भेटणु' (सिरि ७५६, ६०१)।

भिट्टा छी [दे] ऊपर देखो (सिरि ३६२)।

भिड सक [दे] मिटना—१ मिलना, सटना, सट जाना। २ लडना, मुठभेड करना। भिड (भवि), भिडति (सिरि ४५०)। वक्क भिडत (उप ३२० टी, भवि)।

भिडण न [दे] लडाई, मुठभेड, 'सोडोरुहुड भिडणक्कलपड' (सुपा ५६६)।

भिडिय वि [दे] जिसने मुठभेड की हो वह, लडा हुआ (महा, भवि)।

भिणासि पु [दे] पक्षि विशेष (पएह १, १ पत्र ८)।

भिण्ण देखो भिन्न (गजड, नाट—वैत ३४)।

०मरट्ट (अप) पु [महाराट्ट] छन्द का एक भेद (पिग)।

भित्त देखो भिच्च (सलि ५)।

भित्तग } न [दे. भित्तक] १ खएड,
भित्तय } डुकका। २ आषा हिस्ता (आना २, ७, २, ८, ६, ७)।

भित्तार न [दे] १ द्वार, दरवाजा (दे ६, १०५)। २ भीतर, अंदर (पिग)।

भित्ति छी [भित्ति] भीत (गजड, कुमा)।

०सध न [सन्ध] भीत—दीवार का सधान, 'जाएवि भित्तिसधे खणिय खत्त सुत्तिसध-सव्थेण' (महा)।

भित्तिरूव वि [दे] ढक से छिन (दे ६, १०५)।

भित्तिल न [भित्तिल] एक देव-विमान (भग ३८)।

भित्तु वि [भेत्तु] भेदन करनेवाला (पत्र २)।

भित्तु } देखो भिद्।
भित्तूण }

भिद् देखो भिद्। भिदति (आचा २, १, ६, ६)। भवि. भिदिस्सति (आचा २, १, ६,

लोक (कुप्र ४११) । °लोईय वि [°लोकीय] मनुष्य-लोक से सम्बन्ध रखनेवाला (सुपा ५१९) ।

मञ्चिअ वि [दे] मल-युक्त (दे ६, १११ टी) ।

मञ्चिर वि [मदिह] गर्व करनेवाला (कुमा) ।

मञ्चु पु [मृत्यु] १ मौत, मरण (आचा, सुर २, १३८, प्राप् १०६, महा) । २ यम, यमराज (पड्) । ३ रावण का एक सैनिक (पउम ५६, ३१) ।

मञ्छ पु [मत्स्य] १ मछली (गाया १, १, पात्र, जो २०, प्राप् ५०) । २ राहु (सुज्ज २०) । ३ देश-विशेष (इक, भवि) । ४ छत्र का एक भेद (पिंग) । °खल न [°खल] मत्स्यो को सुखाने का स्थान (आचा २, १, ४, १) । °बंध पु [°बन्ध] मञ्छीमार, धीवर (परह १, १, महा) ।

मञ्छ पु न [मत्स्य] मत्स्य के आकार की एक वनस्पति (आचा २, १, १०, ५, ६) ।

मञ्छडिआ ली [मत्स्यण्डिका] खण्डशर्करा, एक प्रकार की शक्कर (परह २, ४, गाया १, १७, परण १७, पिंड २८३, मा ४३) ।

मञ्छडी ली [मत्स्यण्डी] शक्कर (अणु १४७) ।

मञ्छव देखो मथ = मन्थ ।

मञ्छध देखो मञ्छ-वध (विपा १, ८—पत्र ८२) ।

मञ्छर पु [मत्सर] १ ईर्ष्या, द्वेष, डाह, पर-सपत्ति को असहिष्णुता (उव) । २ कोप, क्रोध । ३ वि ईर्ष्यालु, द्वेषी । ४ क्रोधी । कृपण (हे २, २१) ।

मञ्छर न [मात्सर्य] ईर्ष्या, द्वेष (से ३, १९) ।

मञ्छरि वि [मत्सरिन्] मत्सरवाला (परह २, ३, उवा, पात्र) । ली °णी (गा ८४, महा) ।

मञ्छरिअ वि [मत्सरित, मत्सरिक] ऊपर देखो (पउम ८, ४९, पचा १, ३२, भवि) ।

मञ्छल देखो मञ्छर = मत्सर (हे २, २१, पड्) ।

मञ्छिअ देखो मञ्चिअ = माक्षिक (पव ४—गाया २२०) ।

मञ्छिअ वि [मात्स्यिक] मञ्छीमार (आ १२, अमि १८७, विपा १, ६, पिंड ६३१) ।

मञ्छिका (मा) देखो माउ = माउ (प्राक् १०२) ।

मञ्छिगा देखो मञ्छिया (पि ३२०) ।

मञ्छिया } ली [मक्षिका] मक्खी (गाया मञ्छी } १, १६, जो १८, उत ३६, ६०, प्राप्र, सुपा २८१) ।

मञ्ज सक [मद्] अभिमान करना । मञ्जइ, मञ्जई, मञ्जेज्ज (उव, सूअ १, २, २, १, धर्मस ७८) ।

मञ्ज अक [मस्ज्] १ स्नान करना । २ डूबना । मञ्जइ (हे ४, १०१), मञ्जामा (महा ५७, ७, धर्मसं ८९४) । वक्क मञ्जमाण (गा २४६, गाया १, १) । सक मञ्जिऊण (महा) । प्रयो, सक मञ्जाविता (ठा ३, १—पत्र ११७) ।

मञ्ज सक [मृज्] साफ करना, मार्जन करना । मञ्जइ (पड् प्राक् ६६, हे ४, १०५) ।

मञ्ज न [मद्य] दाह, मदिरा (श्रौप, उवा, हे २, २४, भवि) । °इत्त वि [°वत्] मदिरा लोचुप (सुख १, १५) । °व वि [°प] मद्य-पान करनेवाला (पात्र) । °वीअ वि [°पीत] जिसने मद्य-पान किया हो वह (विपा १, ९—पत्र ९७) ।

मञ्जग वि [माद्यक] मद्य-सम्बन्धी, 'अन्नं वा मञ्जगं रसं' (दस ५, २, ३६) ।

मञ्जण न [मज्जन] १ स्नान । २ डूबना (सुर ३, ७६, कप्पु, गउड, कुमा) । °घर न [°गृह] स्नान-गृह (गाया १, १—पत्र १९) । °धाई ली [°वात्री] स्नान कराने-वाली दासी (गाया १, १—पत्र ३७) । °पाली ली [°पाली] वही धर्म्य (कप्प) ।

मञ्जण न [मार्जन] १ साफ करना, शुद्धि (कप्प) । २ वि मार्जन करनेवाला (कुमा) । °घर न [°गृह] शुद्धि गृह (कप्प, श्रौप) । मञ्जर देखो मजर (प्राक् ५) । ली °री, 'को बुन्ममज्जारि कजिएण पवियारिउ तरइ' (सुर ३, १३३) ।

मञ्जविअ वि [मज्जित] १ स्नपित । २ स्नात, 'एत्थं सरे रे पथिअ गयवइवहुयाउ मज्जविआ' (वज्जा ९०) ।

मञ्जा ली [दे मर्या] मर्यादा (दे ६, भवि) ।

मञ्जा ली [मज्जा] धातु-विशेष, च: के भीतर का वृदा (सण) ।

मञ्जाइल्ल वि [मर्यादिन्] मर्यादावात् (४) ।

मञ्जाया ली [मर्यादा] १ न्याय-पथ-व्यवस्था, 'रयणायरस्स मज्जाया' (प्रा आबम) । २ सीमा, हृद, अवधि । किनारा (हे २, २४) ।

मञ्जार पु ली [मार्जार] १ बिल्ला, f (कुमा, भवि) । २ वनस्पति-विशेष, 'व पोरगमज्जारपोइवल्ली य पालका' (परण पत्र ३४) । ली °रिआ, °री (कप्पु, पा मञ्जार पु [मार्जार] वायु-विशेष (मग १, पत्र ६८६) ।

मञ्जाविअ वि [मज्जित] स्नपित (महा)

मज्जिअ वि [दे] १ अवलोकित, निरीक्षि २ पीत (दे ६, १४४) ।

मज्जिअ वि [मज्जित] स्नात, (पिंड ४२ महा, पात्र) ।

मज्जिअ वि [मार्जित] साफ किया हुआ (पउम २०, १२७, कप्प, श्रौप) ।

मज्जिआ ली [मार्जिता] रसाला, भक्ष विशेष—दही, शक्कर आदि का बना हुआ और सुगन्ध से वासित एक प्रकार का खाद्य श्रीखण्ड (पात्र, दे ७, २, पव २५९) ।

मज्जिर वि [मज्जित्] मज्जन करने की आवृत्त-वाला (गा ४७३, सण) ।

मज्जोक्क वि [दे] अभिनव, नूतन (दे ६, ११८) ।

मञ्म न [मध्य] १ अन्तराल, मझार, बीच (पात्र, कुमा, द ३६, प्राप् ५०, १६७) । २ शरीर का अवयव-विशेष (कप्पु) । ३ सख्या-विशेष, अन्वय और परार्थ के बीच की सख्या (हे २, ९०, प्राप्र) । ४ वि. मध्यवर्ती, बीच का (प्राप् १२५) । °एस पु [°देश] देश-विशेष, गंगा शीर यमुना के बीच का प्रदेश, मध्य प्रान्त (गउड) । °गय वि [°गत] १ बीच का, मध्य में स्थित (आचा, कप्प) । २ पुं अवधितान का एक भेद (एदि) ।

(पञ्च ५, २६३) । ६ सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र (पञ्च ५, १७५) । ७ दमयती का पिता (कुप्र ४८) । ८ एक कुल-पुत्र (कुप्र १२२) । ९ गुजरात का चालुक्य-वंशीय एक राजा—भीमदेव (कुप्र ४) । १० हस्तिनापुर नगर का एक कूटग्रह—राज-पुरुष (विपा १, २) । ११ एव पु [°देव] गुजरात का एक चालुक्य राजा (कुप्र ५) । १२ कुमार पुं [°कुमार] एक राज-पुत्र (धम्म) । १३ पद्म पुं [°पद्म] राक्षस-वंश का एक राजा, एक लका-पति (पञ्च ५, २५६) । १४ रह पु [°रथ] एक राजा, दमयती का पिता (कुप्र ४८) । १५ सेण पु [°सेन] १ एक पाण्डव, भीम (एया १, १६) । २ एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । १६ वलि पुं [°वलि] श्रेण-विद्या का जानकार पहला उद्द पुरुष (विचार ४७३) । १७ सुर न [°सुर] शास्त्र-विशेष (अणु) ।

भीमासुरक न [भीमासुरोक्त °रीय] एक जैनैतर प्राचीन शास्त्र (अणु ३६) ।

भीरु } वि [भीरु, °क] डरपोक (वेदय भीरुअ } ६६, गड, उत्त २७, १०, अमि ८२) ।

भीस सक [भीपय] डराना । भीसइ (वाल्वा १५७), भीसेइ (प्राक ६४) ।

भीसण वि [भीषण] भयकर, भय-जनक (जी ४६, सण, पात्र) ।

भीसय देखो भेसग (राज) ।

भीसाव देखो भीस । भीसावेइ (वाल्वा १५७) ।

भीसिद (शौ) वि [भीपित] भय-भीत किया हुआ, डराना हुआ (नाट—माल ५६) ।

भीह अक [भी] डरना । भीहइ (प्राक ६४) ।

भुअ देखो भुज । भुअइ, भुअए (गड) ।

भुअ न [°दे] भूर्ज-पत्र, वृक्ष-विशेष की छाल (दे ६, १०६) । १ स्त्रख पुं [°वृक्ष] वृक्ष-विशेष; भूर्जपत्र का वेड (परण १—पत्र ३५) । २ वत्त न [°पत्र] भोजपत्र (गड ६४१) ।

भुअ पुत्री [भुज] १ हाथ, कर (कुमा) । २ गणित-प्रसिद्ध रेखा-विशेष (हे १, ४) । जी ० आ (हे १, ४, पिग, गड, से १,

३) । १ परिसप पुत्री [°परिसर्प] हाथ से चलनेवाला प्राणी; हाथ से चलनेवाली सर्प-जाति (जी २१, परण १, जीव २) । जी. १ पिपणी (जीव २) । २ मूल न [°मूल] कसा, काँख (पात्र) । ३ मोयग पु [°मोचक] रत्न की एक जाति (सग, श्रौप, उत्त ३६, ७६, तदु २०) । ४ सप पु [°सपे] देखो १ परिसाप (पव १५०) । ५ छ वि [°वत्] बलवान हाथवाला (सिरि ७६६) ।

भुअअ देखो भुअग (गड, पिग, से ७, ३६, पात्र) ।

भुअइद पु [भुजगेन्द्र] १ श्रेष्ठ सर्प (गड) । २ शोबनाग, वासुकि (अन्नु २७) । ३ भुरेस पु [°पुरेश] श्रीकृष्ण (अन्नु २७) ।

भुअईसर } पु [भुजगेश्वर] ऊपर देखो भुअएसर } (परह १, ४—पत्र ७८, अन्नु ३६) । १ गअरणाइ पुं [°नगरनाथ] श्री-कृष्ण (अन्नु ३६) ।

भुअग पु [भुजग] १ सर्प, साँप (से ५, ६०, गा ६४०, गड, सुर २, २४५, उव, महा, पात्र) । २ विट, रडोवाज, वेश्या-नामो (कुमा, वज्जा ११६) । ३ जार, उपपति (कम्प) । ४ दूतकार, भुआडी (उप पृ २५२) । ५ चोर, तत्कर, दिव सलोत्तमो जेव मायापभोयकुसलो वाणिययवेसधारी गहिअो महाभुअगो (स ४३०) । ६ बदमाश, ठग, 'तावसवेसधारियो गहियनलियापमोग-खग्गा विसेणकुमारसतिया चत्तारि महाभुअग ति' (स ५२४) । ७ किचि जी [°किचि] कंबुक (गा ६४०) । ८ पआत (अप) देखो १ प्पजाय (पिग) । २ प्पजाय न [°प्रयात] १ सर्प-गति । २ छन्द-विशेष (अमि) । ३ राअ पु [°राज] शेषनाग (त्रि ८२) । ४ वैइ पु [°पति] शेषनाग (गड) । ५ पआअ (अप) देखो १ प्पजाय (पिग) ।

भुअगम पुं [भुजगम] १ सर्प, साँप (गड १७८, पिग) । २ स्वनाम-व्यात एक चोर (महा) ।

भुअगिणी } जी [भुजङ्गी] १ विद्या-विशेष भुअगी } (पञ्च ७, १४०) । २ नागिन (सुपा १८१, यत् ११७) ।

भुअग पुं [भुजग] १ सर्प, साँप (सुर २,

२३६, महा, जी ३१) । २ एक देव-जाति, नाग-कुमार देव (परह १, ४) । ३ वागव्यतर देवो की एक जाति, महोरग (इक) । ४ रडोवाज, 'भ कुट्टणिव्व भुअग तुमं पवारवि अतियवयणेहि' (कुप्र ३०६) । ५ वि, भोगी, विलासी (एया १, १ टी—पत्र ४, श्रौप) । ६ परिंरिगिअ न [परिंरिङ्गत] छन्द-विशेष (अमि १६) । ७ वैइ जी [°वती] एक इन्द्राणी, प्रतिकाय नामक महोरगेन्द्र की एक भय-महिषी (इक, ठा ४, १, एया २) । ८ वर पुं [°वर] द्वीप-विशेष (राज) ।

भुअग वि [भोजक] पूजक, सेवा-कारक (एया १, १ टी—पत्र ४, श्रौप, अत) ।

भुअगा जी [भुजगा] एक इन्द्राणी; प्रतिकाय नामक इन्द्र की एक भय महिषी (ठा ४, १, एया २, इक) ।

भुअगीसर देखो भुअईसर (तदु २०) ।

भुअण देखो भुवण (चड, हास्य, १२२, पिग, गड) ।

भुअप्पइ } देखो बहस्सइ (पि २१२, पइ) । भुअप्फइ } भुअरसइ

भुआ देखो भुअ = भुज ।

भुइ जी [भुति] १ भरण । २ गोपण । ३ वेतन । ४ मूल्य (हे १, १३१, पइ) ।

भुउडि देखो भिउडि (पि १२४) ।

भु गल न [°दे] वाद्य-विशेष (सिरि ४१२) ।

भु ज सक [भुज] १ भोजन करना । २ पालन करना । ३ भोग करना । ४ अनुभव करना । भु जइ (हे ४, ११८, कस, उवा) । भुजेअ (कम्प), 'निअभुअ भुजयु सुहेण' (सिरि १०४४) ।

भुका भुजित्वा (पि ५१७) । अवि भुजिही, भोवसति, भोवसामि, भोवसवि, भोवइ (पि ५३२, कम्प, हे ३, १७१) । कर्म भुज्जइ, भुजिज्जइ (हे ४, २४६) । वड भुजव, भुजमाण, भुजेमाण, भुजाण (अवा, कुमा, विपा १, २, सम ३६, कम्प, पि ५०७, धर्मवि १२७) । कवह, भुज्जित (सुपा ३७५) । सड, भुजिअ, भुजिआ, भुजिऊण, भुजिऊण, भुजिआ, भुजित्तु, भोच्चा, भोच्चु, भोच्चण (पि ५६१, सूअ १, ३, ४, २, सण, पि ५८५,

मडुय पु [दे मडुक] वाद्य-विशेष (राय ४६)।

मडुा खी [दे] १ बलात्कार, हठ, जवरदस्ती (दे ६, १४०, पात्र, सुर ३, १३६, सुख २, १५)। २ आज्ञा, हुकुम (दे ६, १४०, सुपा २७६)।

मडुिअ वि [मर्दित] जिसका मर्दन किया गया हो वह (हे २, ३६, षड्, पि २६१)। मडुिअ देखो मद्दुअ (राज)।

मड देखो मडु। मडइ (हे ४, १२६)।

मड पुन [मठ] सन्यासियों का आश्रय, ब्रतियों का निवासस्थान, 'मठों' (हे १, १६६, सुपा २३४, वज्जा ३४, भवि), 'मठ' (प्राप्र)।

मडिअ देखो मडुिअ (कुमा)।

मडिअ वि [दे] १ खचित, पुजराती में 'मडेवु', 'एयाउ श्रोसहोभ्रो तिघाउमडियाउ धारिज्जा' (सिरि ३७०)। २ परिवेष्टित (दे २, ७५, पात्र)।

मडी खी [मठि] छोटा मठ (सुपा ११३)।

मण सक [मन्] १ मानना। २ जानना। ३ चिन्तन करना। मणइ, मणसि (षड्, कुमा)। कवक मणिज्जमाण (भग १३, ७, विसे ८१३)।

मण पुंन [मनस्] मन, अन्त करण, चित्त (भग १३, ७, विसे ३५२५, स्वप्न ४५, द २२, कुमा, प्रासू ४४, ४८, १२१)।

-अगुत्ति खी [अगुत्ति] मन का असयम (पि १५६)। *करण न [करण] चिन्तन, पर्यालोचन (आवक ३३७)। *गुत्त वि [गुत्त] मन को समय में रखनेवाला (भग)। *गुत्ति खी [गुत्ति] मन का समय (उत्त २४, २)। *जाणुअ वि [ज्ञ] १ मन को जाननेवाला, मन का जानकार। २ सुन्दर, मनोहर (प्राक १८)। *जीविअ वि [जीविक] मन को आत्मा माननेवाला (पह १, २—पत्र २८)। *जोअ पु [योग] मन को चेष्टा, मनो-व्यापार (भग)। *ज्ज, *ण्णु, *ण्णुअ देखो *जाणुअ (प्राक १८, षड्)। *यभणी खी [स्तम्भनी] विद्या विशेष, मन को स्तब्ध करनेवाली दिव्य शक्ति (पउम ७, १३७)। *नाण न [ज्ञान] मन का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान, मन-

पर्यव ज्ञान (कम्म ३, १८, ४, ११, १७, २१)। *नाणि वि [ज्ञानिन्] मन-पर्यव नामक ज्ञानवाला (कम्म ४, ४०)। *पज्जन्ति खी [पर्याप्ति] पुद्गलो को मन के रूप में परिणत करने की शक्ति (भग ६, ४)। *पज्जव पुं [पर्यव] ज्ञान-विशेष, दूसरे के मन की अवस्था को जाननेवाला ज्ञान (भग, श्रौप, विसे ८३)। *पज्जवि वि [पर्यविन्] मन पर्यव ज्ञानवाला (पव २१)। *पसिण-विज्जा खी [प्रश्नविद्या] मन के प्रश्नों का उत्तर देनेवाली विद्या (सम १२३)। *वल्लिअ वि [वल्लिन्, *क] मनो-बलवाला, दृढ मनवाला (पह २, १, श्रौप)। *मोहण वि [मोहन] मन को मुग्ध करनेवाला, चित्ताकर्षक (गा १२८)। *योगि वि [योगिन्] मन की चेष्टावाला (भग)। *वग्गणा खी [वर्गणा] मन के रूप में परिणत होनेवाला पुद्गल-समूह (राज)। *वज्ज न [वज्ज] एक विद्याधर नगर (इक)। *समिइ खी [समिति] मन का समय (ठा ८—पत्र ४२२)। *ससिय वि [समित] मन को समय में रखनेवाला (भग)। *हंस पुं [हंस] छन्द-विशेष (पिग)। *हर वि [हर] मनोहर, सुन्दर, चित्ताकर्षक (हे १, १५६, श्रौप, कुमा)। *हरण पुन [हरण] पिगल-प्रसिद्ध एक मात्रा-पद्धति (पिग)। *भिराम, *भिरामेह वि [अभिराम] मनोहर (सम १४६, श्रौप, उप पु ३२२, उप २२० टी)। *म वि [आप] सुन्दर, मनोहर (सम १४६, विपा १, १, श्रौप, कप्प)। देखो मणो।

मणं देखो मणय (प्राक ३८)।

मणसि वि [मनस्विन्] प्रशस्त मनवाला (हे १, २६)। खी *णी (हे १, २६)।

मणसिल } खी [मन शिला] लाल वणं मणसिला } की एक उपधातु, मनशिल, मैनशिल (कुमा, हे १, २६)।

मणग पु [मनक] एक जैन बाल-मुनि, महापि शर्मभवसूरि का पुत्र और शिष्य (कप्प, धर्मवि ३८)। देखो मणय।

मणगुलिया खी [दे] पीठिका (राय)।

मणण न [मनन] १ ज्ञान, जानना। २ समझना (विसे ३५२५)। ३ चिन्तन (आवक ३३७)।

मणय पु [मनक] द्वितीय नरक-भूमि का तीसरा नरकेन्द्रक—नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ६)। देखो मणग।

मणयं प्र [मनाग] अल्प, थोडा (हे २, १६६, पात्र, षड्)।

मणस देखो मण = मनस्; 'पसन्नमणसो करिस्सामि' (पउम ६, ५६), 'लाभो चेव तवस्सिस्स होइ अहीणमणसस्स' (श्रौष ५३७)।

मणसिल } देखो मणसिला (कुमा, हे १, मणसिला } २६, जी ३, स्वप्न ६४)।

मणसीकय वि [मनसिकृत] चिन्तित (पणण ३४—पत्र ७८२ सुपा २४७)।

मणसीकर सक [मनसि + कृ] चिन्तन करना, मन में रखना। मणसीकरे (उत्त २, २५)।

मणसि देखो मणंसि (धर्मवि १४६)।

मणा देखो मणय (हे २, १६६, कुमा)।

मणाउ } (अप) ऊपर देखो (कुमा, भवि, पि मणाउ } ११४, हे ४, ४१८, ४२६)।

मणाग ऊपर देखो (उप १३२, महा)।

मणाल देखो मुणाल (राज)।

मणालिया खी [मणालिका] पद्म-कन्द का मूल (तट्ट २०)। देखो मुणालिआ।

मणालिआ देखो मणसिला (हे १, २६, पि ६४)।

मणि पुत्री [मणि] पत्थर-विशेष, मुक्ता आदि रत्न (कप्प, श्रौप, कुमा, जी ३, प्रासू ४)। *अग पुं [अङ्ग] कल्प-वृक्ष की एक जाति जो भ्राभुषण देती है (सम १७)। *आर पु [कार] जौहरी, रत्नों के गहनों का व्यापारी (दे ७, ७७, मुद्रा ७६, राया १, १३, धर्मवि ३६)। *कचण न [काञ्चन] शक्ति-पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३—पत्र ७०)। *कूड न [कूट] रुषक पर्वत का एक शिखर (दीच)। *क्खइअ वि [खचित] रत्न-व्यक्ति (पि १६६)। *चइया खी [चयिता] नगरी-

भुल वि [भ्रष्ट] भूला हुआ, 'कामधर्मो कि पममेसि भुल्लो' (श्रु १५३, सुपा १२४, ५१६, कप्पु) ।

भुल्लवि अ [भ्र'शिन] भ्रष्ट किया हुआ (कुमा) ।

भुल्लि वि [भ्र'शिन] भूलनेवाला, 'मपण-अभुल्लिरदुल्ललियमल्लिसुमहल्लतिकवमल्लोहि' (सुपा १२३) ।

भुल्लुकी [दे] देखो भल्लुकी (प्राग्) ।

भुव देखो हुव = भू । भुवद (पि ४७५) । भुवदि (शौ) (घात्वा १४७) । भूका, भुवि (भग) ।

भुव देखो भूअ = भुज (भवि) ।

भुवइद देखो भुअइद (से ५, ७१) ।

भुवण न [भुवन] १ जगत्, लोक (जो १, सुपा २१, कुमा २, १५) । २ जोव, प्राणी, 'भुवणामयवाणल्लिअस्स' (कुमा) । ३ आकाश (प्रावु १००) । 'कखोहणी ली [क्षोभनी] विद्या-विशेष (सुपा १७४) । 'गुरु पु [गुरु] जगत् का गुरु (सुपा ७५) । 'नाह पु [नाथ] जगत् का शाता (उप ५ ३५७) । 'पाल पु [पाल] विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गोपगिरि का एक राजा (पुरि १०८६६) । 'वधु पु [वन्धु] १ जगत् का वन्धु । २ जितदेव (उप २११ टी) । 'सोह पु [शोभ] सातवें बलदेव के दीक्षक एक जैन मुनि (पउम २०, २०५) । 'लिकार पु [लिकार] रावण का एक पट्ट-हस्ती (पउम ८२, १११) ।

भुवणा ली [भुवना] विद्या विशेष (पउम ७, १४०) ।

भुइका (मा) देखो भुक्खा (प्राक् १०१) ।

भुस देखो वुस, 'वुसरसी इवा भुसरसी इवा' (भग १५) ।

भुसुडि ली [दे भुसुण्ड] शस्त्र-विशेष (सण) ।

भू देखो भुव = भू । भूमि (पि ४७६) । सक्क भोत्ता, भोदुण (शौ) (हे ४, २०१) ।

भू ली [भू] भौं, श्राद्ध के ऊपर की रोम-राजि, 'रत्ता भूसुआए' (सुपा ५७६, आ १४, सुपा २२६, कुमा) ।

भू ली [भू] १ पृथिवी, धरती (कुमा, कुम ११६, जोवस २७६, सिरि १०४४) । २ पृथ्वीकाम, पार्थिव शरीरवाला जीव (कम्म ४, १०, १६, ३६) । 'आर पु [दार] शूकर, सुअर (किरात ९) । 'कन पु [कान्त] राजा, नर-पति (आ २८) । 'गोल पु [गोल] गोलाकार भूमण्डल (कप्पु) । 'चद पु [चन्द्र] पृथिवी का चन्द्र, भूमि-चन्द्र (कप्पु) । 'चर वि [चर] भूमि पर चलने फिरनेवाला मनुष्य आदि (उप ६८६ टी) । 'च्छत्त पुन [च्छत्र] वनस्पति-विशेष (दे १, ६४) । 'तणप देखो 'यणय (राज) । 'धण पु [धन] राजा (आ २८) । 'धर पु [धर] १ राजा, तरपति (धर्मवि ३) । २ पर्वत, पहाड़ (धर्मवि ३, कुप्र २६४) । 'नाह पु [नाथ] राजा (उप ६८६ टी, धर्मवि १०७) । 'मह पु [मह] अशोराज का सत्ताईसवा मुहुर्त्त (सम ५१) । 'यणय पुन [तृणरु] वनस्पति-विशेष (पण १—पत्र ३४) । 'रुह पु [रुह] वृक्ष, पेड़ (गउड, पुष्क ३६२, धर्मवि १३८) । 'व पु [व] राजा (उप ७२८ टी, ती ३, श्रु ६६, काल) । 'वइ पु [वपति] राजा (सुपा ३६, पिग) । 'वाल पु [पाल] १ राजा (गउड, सुपा ५६०) । २ व्यक्ति वाचक नाम (भवि) । 'वित्त पु [वित्त] राजा (आ २८) । 'वीठ न [पीठ] भूतल, भूमि-तल (सुपा ५६३) । 'हर देखो 'धर (सण) ।

भू पु [भूयस्] कर्म बन्ध का एक भूअ प्रकार (कम्म ५, २२, २३) । 'गार पु [कार] वही अर्थ (कम्म ५, २२) । देखो भूओगार ।

भूअ पु [दे] यन्त्रवाह, यन्त्र-वाहक पुरुष (दे ६, १०७) ।

भूअ वि [भूत] १ वृत्त, सजात, बना हुआ । २ अतीत, गुजरा हुआ (पइ, पिग) । ३ प्राप्त, लब्ध (आया १, १—पत्र ७४) । ४ समान, सदृश, तुल्य, 'ससभुएहि' (सूत्र २, ७, ७, ८ टी) । ५ वास्तविक, यथार्थ, सत्य, 'भूमल्लोहि चिस गुणेहि' (गउड), 'भूमल्लसत्प-गयी' (सम्मत् १३६) । ६ विद्यमान, 'एव

'जह स हत्यो सतो भूमो तदवहाभूमो' (वित् २२५१) । ७ उपमा, श्रौपम्य । ८ तादर्थ्य, तादर्थ्य-भाव, 'श्रीवम्मे तादत्थे व हज एत्थिअ भूयसदो ति' (आवक १२४) । ९ न, प्रकृत्यर्थ, 'उम्मत्तगमुए' (आ ५, १) । १० पु एक देव-जाति (पण १, ४, इक, आया १, १—पत्र ३६) । ११ पिशाच (प्राक् ६ ४, २५) । १२ समुद्र-विशेष (वेत्त २५५) । १३ द्वीप-विशेष (सुल १६) । १४ पुन जन्तु, प्राणी; 'पाणाई भूयाई जीवाइ सत्ताई', 'भूयाणि वा जीवाणि वा' (आचा १, ६, ५, ४, १, ७, २, १, २, १, १, ११, पि ३६७), 'हरियाणि भूयाणि विलवगाणि' (सूत्र १, ७, ८, उवर १५६) । १५ पृथिवी आदि पंच द्रव्य, महाभूत (स १६५), 'किं मने पच भूया' (विसे १६८६) । १६ वृक्ष, पद, वनस्पति (आचा १, १, ६, २) । 'इइ पु [इन्द्र] भूत-देवो का इन्द्र (पि १६०) । 'गह पु [ग्रह] भूत का आवेश (जोव ३) । 'ग्गाम पु [ग्राम] जीव-समूह (सम २६) । 'थ वि [थ] यथार्थ; वास्तविक (गउड, पउम २८, १४) । 'दिण्णा देखो 'दिन्ना (पडि) । 'दिन्न पु [दिन्न] १ एक जैन आचार्य (एवि) । २ एक चाएडाल-नायक (महा) । 'दिन्ना लो [दिन्ना] १ एक अन्त-कृत ली (अत) । २ एक जैन साध्वी, महापि स्थूलभद्र की भगिनी (कप्पु) । 'मडल्लपि भित्त न [मण्डलप्रथिभक्ति] नाथ विवि का एक भेद (राज) । 'लिपि ली [लिपि] लिपि-विशेष (सम ३५) । 'वडिसा ली [वित्तसा] १ एक इन्द्राणी (जोव ३) । २ एक राजधानी (दोव) । 'वाइ, 'वाइय, 'वादिय पु [वादिन्, 'वादिक्] १ एक देव-जाति (इक, पण १, ४, शौप) । २ वि भूत ग्रह का उपचार करनेवाला, मन्त्र-तन्त्रादि का जानकार (सुव १, १४) । 'नय पु [वाट] १ यथार्थवाद । २ इन्द्राण, बारहवां जैन अण-अन्य (आ १०—पत्र ८६१) । 'विज्जा, 'वेज्जा ली [विज्या] आयुर्वेद का एक भेद, भूत निग्रह विद्या (पिपा १, ७—पत्र ७५ टी) । 'णत्त पु [णत्त] १ नागकुमार देवो का दक्षिण दिशा का द

कर्म मरिएण्जइ (कुम १०६) । वृद्ध
मण्णमाण (नाट चैत १३३) ।

मण्णण न [मानन] मानना, आदर (उप
१५४) ।

मण्णा देखो मन्ना (राज) ।

मण्णिय देखो मन्त्रिय (राज) ।

मण्णु देखो मन्तु (गा ११, ५०८, दे ६, ७१,
वेणो १७) ।

मण्णे देखो मणे (कप्प) ।

मत्त वि [मत्त] १ मद-युक्त, मतवाला (उवा,
प्रासू ६४, ६८, भवि) । २ न मद्य, दारु
(ठा ७) । ३ मद, नशा (पव १७१) । °जला
व्ही [°जला] नदी विशेष (ठा २, ३, इरु) ।
मत्त देखो मेत्त = मात्र, 'वयणमत्तमिद्वारण'
(रभा) ।

मत्त न [अमत्र, मात्र] पात्र, भाजन (आचा
२, १, ६, ३, ओच २५१) । देखो मत्तय ।
मत्त (अप) देखो मच्च = मत्थं (भवि) ।

मत्तगय पु [मत्ताङ्गक, °द] कल्पवृक्ष की
एक जाति, मद्य देनेवाला कल्पतरु (सम १७,
पव १७१) ।

मत्तड पु [मार्तण्ड] सूर्य, रवि (सम्मत्त १४५,
सिरि १००८) ।

मत्तग न [दे] पेशाव, मूत्र (कुलक ६) ।

मत्तग } पुन [अमत्र, मात्रक] १ पात्र,
मत्तय } भाजन । २ छोटा पात्र, विद्वज्जओ
मत्तओ होई (वृह ३, कप्प) ।

मत्तय देखो मत्तग = दे (कुलक १३) ।

मत्तही व्ही [दे] बलात्कार (दे ६, ११३) ।

मत्तवारण पुन [मत्तवारण] वरडा, वरामदा,
दालान (दे ६, १२३, सुर ३, १००,
भवि) ।

मत्तवाल पु [दे] मतवाला, मदोन्मत्त (दे ६,
१२२, पड, सुख २, १७, सुखा ४८६) ।

मत्ता व्ही [मात्रा] १ परिमाण (पिंड ६५१) ।
२ अश्र, भाग, हिस्सा (स ४८३) । ३ समय
का सूक्ष्म नाप । ४ सूक्ष्म उच्चारण-कालवाला
वर्णवियव (पिंग) । ५ अल्प, लेश, लव (पात्र) ।

मत्ता थ [मत्वा] जानकर (सूत्र १, २, २,
३२) ।

मत्तालव पु [दे मत्तालव्य] वरडा, वरा-
मदा (दे ६, १२३, सुर १, ५७) ।

मत्तिया व्ही [मत्तिका] मिट्टी (परण १—
पत्र २५) । °वई व्ही [वती] नारी-विशेष,
दशाण्डेश की राजधानी (पव २७५) ।

मत्थ पुन [मस्त, °क] माथा, सिर (से
मत्थग } १. १, स ३८५, औप) । °थ्य वि
मत्थय } [°स्थ] सिर मे स्थित (गउड) ।

°मणि पु [°मणि] शिरोमणि, प्रधान, मुख्य
(उप ६४८ टी) ।

मत्थय पुन [मस्तक] गर्भ, फल आदि का
मध्यभाग—अन्त सार (आचा २, १, ८,
६) ।

मत्थयधोय वि [दे वौतमस्तक] दासत्व
से मुक्त, गुलामी से मुक्त किया हुआ (खाया
१, १—पत्र ३७) ।

मत्थुलुग } न [मत्तुलुङ्ग] १ मस्तक-स्नेह,
मत्थुलुय } सिर मे से निकलता एक प्रकार
का चिकना पदार्थ (परह १, १, तडु १०) ।

२ भेद का फिफिस आदि (ठा ३, ४—पत्र
१७०, भग, तडु १०) ।

मत्थिय देखो महिअ = मथित (परह २, ४—
पत्र १३०) ।

मद देखो मय = मद (कुमा, प्रयो १६, पि
२०२) ।

मद (मा) देखो मय = मृत (प्राक १०३) ।

मदण देखो मयण (स्वप्न ६३, नाट—मृच्छ
२३१) ।

मदणसला(गा) देखो मयणसलागा (परण
१—पत्र ५४) ।

मदणा देखो मयणा = मदना (खाया २—पत्र
२५१) ।

मदणिज्ज वि [मदनीय] कामोद्दीपक, मदत-
वर्धक (खाया १, १—पत्र १६, औप) ।

मदि देखो मइ = मति (मा ३२, कुमा, पि
१६२) ।

मदीअ देखो मईअ (स २३२) ।

मदुवी देखो मडई (चड) ।

मदोली व्ही [दे] दूती, दूत कर्म करनेवाली
व्ही (पड) ।

मद सक [मृद] १ चूर्ण करना । मालिश
करना, मपलता, मलना । मदाहि (कप्प) ।
कर्म मदीअदि (नाट—मृच्छ १३५) । हेक्क.
मदिअ (पि ५८५) ।

महण न [मर्दन] १ अंग-चप्पी, मालिश
(सुपा २४) । २ हिंसा करना, 'तसयावरभुय-
महण विविह' (उव) । ३ वि. मर्दन करने-
वाला (वी ३) ।

महल पु [मर्दल] वाद्य-विशेष, मुरज, मुदग
(दे ६, ११६, सुर ३, ६८, सिरि १५७) ।

महलिअ वि [मार्दलिक] मुदग बजानेवाला
(सुपा २६४, ५५३) ।

महव न [मार्दव] मुदुता, नभ्रता, विनय,
अहकार नियह (औप, कप्प) ।

महवि वि [मार्दविन्] नभ्र, विनीत, 'अज्ज-
विय मददवियं लाधविय' (सूत्र २, १, ५७,
आचा) ।

महविअ वि [मार्दविक, °त] ऊपर देखो
(वृह ४, वव १) ।

महिअ देखो मड्डिअ (पात्र) ।

मद्दो व्ही [माद्री] १ राजा शिशुपाल की मा
का नाम (सूत्र १, ३, १, १ टी) । २ राजा
पाण्डु की एक व्ही का नाम (वेणो १७२) ।

मद्दुअ पु [मद्दुक] भगवान् महावीर का
राजगृह-निवासी एक उपासक (भग १८,
७—पत्र ७५०) ।

मद्दुग पु [मद्गु, °क] पक्षि-विशेष, जल-
वायस (भग ७, ६—पत्र ३०८) । देखो
मग्गु ।

मद्दुग देखो मुदुग (राज) ।

मधु देखो महु (पड, रंभा, पिंग) ।

मधुचाद पु [मधुघात] एक म्लेच्छ-जाति
(मृच्छ १५२) ।

मधुर देखो महुर (निचू १, प्राक ८५) ।

मधुसित्थ देखो महुसित्थ (ठा ४, ४—पत्र
२७१) ।

मधूला व्ही [दे मधूला] पाद-गण्ड (राज) ।
मन अ [दे] निषेधार्थक अव्यय, मत, नहीं
(कुमा) ।

मनुस्स देखो मणुस्स (चड, भग) ।

मन्न देखो मण्ण मच्चइ, मन्नसि (आचा, महा),
मन्नते, मन्नेसि (रंभा) । कर्म, मन्निज्जउ
(महा) । वृद्ध मन्नत, मन्नमाण (सुर १४,
१७१, आचा, महा, सुपा ३०७, सुर ३,
१७४) ।

भेअग वि [भेदक] भेद-कारक (श्रौप, भग) ।
 भेअण न [भेदन] १ विदारण, विच्छेदन, 'कु तसस सत्तापायालभेयणे नूण सामत्थ' (वेइय ७४६, प्रासू १४०) । २ भेद, फूट करना (पव १०६) । ३ विनाश, 'कुलसयण-मित्तभेयणकारिकाश्रो' (तंदु ४६) ।
 भेअय देखो भेअग (भग) ।
 भेअव्व देखो भिद ।
 भेअव्व देखो भी = भी ।
 भेइल्ल वि [भेदवत्] भेद वाला, 'सम्मत्त-नाणचरणा पत्तेयं अट्टमट्टमेइल्ला' (सबोध २२, पच ४, १) ।
 भेउर देखो भिउर (आचा, ठा २, ३) ।
 भेंडी ली [भिण्डा, ंण्डी] गुल्म-विशेष, एक जाति की वनस्पति (पएह १—पत्र ३२) ।
 भेंभल देखो भिभल (से ६, ३७) ।
 भेंभल्लिद (श्री) देखो भिभल्लिअ (पि २०६) ।
 भेक देखो भेग (दे १, १४७) ।
 भेक्खस पुं [दे] राक्षस रिपु, राक्षस का प्रतिपक्षी (कुप्र ११२) ।
 भेग पु [भेक] मंडक (दे ४, ६, धर्मस ५५७) ।
 भेच्छं देखो भिद ।
 भेज्ज देखो भिज्ज (विपा १, १ टी—पत्र १२) ।
 भेज्ज { वि [दे] भोह, डरपोक (दे ६, भेज्जलय १०७, पड्) ।
 भेज्जल }
 भेड वि [दे भेर] भोह, कातर (हे १, २५१, दे ६, १०७, कुमा २, ६२) ।
 भेडक देखो भेलय (मुच्च १८०) ।
 भेत्तु वि [भेत्तु] भेदन-कर्ता (आचा) ।
 भेत्तुआण } देखो भिद ।
 भेत्तु }
 भेत्तुण }
 भेद देखो भिद । सक्क भेदिअ (मुच्च १४३) ।
 भेद देखो भेअ (भग) ।
 भेदअ देखो भेअय (वणी ११२) ।
 भेदणया देखो भेअण (उप पु ३२१) ।
 भेदिअ देखो भेद = भिद ।
 भेदिअ वि [भेदिअ] भिन्न किया हुआ (भग) ।
 भेरड पु [भेरण्ड] देश-विशेष (राज) ।

भेरव न [भैरव] १ भय, डर (कप्प) । २ पु राक्षस आदि भयकर प्राणी (सुप्र १, २, २, १४, १६) । ३ देखो भइरव (पउम ६, १८३, वेइय १००, श्रौप, महा, पि ६१) ।
 ंणद पु [ंणन्द] एक योगी का नाम (कप्प) ।
 भेरि } ली [भेरि, ०री] वायु-विशेष, ढका
 भेरी } (कप्प, पिग, श्रौप, सण) ।
 भेरुड पु [भेरुण्ड] भाहड पक्षी, दो मुँह और एक शरीरवाला पक्षि-विशेष (दे ६, ५०) ।
 भेरुड पु [दे] १ चित्रक, चीता, श्वापद पशु-विशेष (दे ६, १०८) । २ निविप सर्प, 'सविसो हम्मइ सणो भेरुडो तत्थ मुच्च' (प्रासू १६) ।
 भेरुताल पु [भेरुताल] वृक्ष-विशेष (राज) ।
 भेल सक [भेलय्] मिश्रण करना, मिलाना । गुजराती में 'भेळवु' । सक्क भेलइत्ता (पि २०६) ।
 भेलय पुं [दे भेलक] वेडा, उडुप, नौका (दे ६, ११०) ।
 भेलविय वि [भेलित] मिश्रित, युक्त, 'सो भयभेलवियविट्ठी जल ति मन्नमाणो' (वसु) ।
 भेली ली [दे] १ आज्ञा, हुकुम । २ वेडा, नौका । ३ बेटी, दासी (दे ६, ११०) ।
 भेस सक [भेसय्] डराना । भेसइ, भेसेइ (धात्वा १४८, प्राळ ६४) । कर्म भेसिज्जए (धर्मवि ३) । वक्क भेसत, भेसयत (पउम ५३, ८६, था १२) । कवक्क भेसिज्जत (पउम ४६, ५४) । सक्क भेसेऊण (काल, पि ५८६) । हेक्क भेसेउ (कुप्र १११) ।
 भेसग पु [भोष्मक] रुक्मिणी का पिता, कौरिडन्य-नगर का एक राजा (याया १, १६, उप ६५८ टी) ।
 भेसज न [भैपज] श्रौपष (पउम १४, ५४, ५६) ।
 भेसज्ज न [भैपज्ज] श्रौपष, दवाई (उवा, श्रौप, रंभा) ।
 भेसण देखो भीसण (भग ७, ६—पत्र ३०७) ।
 भेसण न [भीपण] डराना, विप्रासन (भोप २०१) ।

भेसणा ली [भीपणा] ऊपर देखो (पएह २, १—पत्र १००) ।
 भेसयत देखो भेस ।
 भेसाव देखो भेस । भेसावइ (धात्वा १४८) ।
 भेसाविय } वि [भोपित] डराया हुआ
 भेसिअ } (पउम ४६, ५३, से ७, ४५, सुर २, ११०, श्रावक ६३ टी) ।
 भो देखो भुज । सक्क भोजण, भोत्तण (धात्वा १४८, सखि ३७) । हेक्क भोउ (धात्वा १४८, सखि ३७) । क्क भोत्तव्व (सखि ३७), भोअव्व (धात्वा १४८) ।
 भो अ [भोस्] ग्रामन्वण-द्योतक ग्रन्थ (प्राळ ७६, उवा, श्रौप, जी ५०) ।
 भो स [भवत्] तुम, आप । ली भोई (उत् १४, ३३, स ११६) ।
 भोअ सक [भोजय्] खिलाना, भाजन कराना । भोयइ, भोयए (सम्मत् ११५, सुप्र २, ६, २६) । सक्क भोइत्ता (उत् ६, ३८) ।
 भोअ पु [दे भोग] भाडा, किराया (दे ६, १०८) ।
 भोअ देखो भोग (स ६५८, पाप, सुपा ४०४, रभा ३२) ।
 भोअ पु [भोज] उज्जयिनी नगरी का एक सुप्रसिद्ध राजा (रभा) । ०राय पु [राज] वही धर्म (सम्मत् ७५) ।
 भोअ वि [भौत] भस्म से उपलित (धर्म ४१) ।
 भोअग वि [भोजक] १ खानेवाला (पिउ ११७) । २ पालन-कर्ता (वह १) ।
 भोअडा ली [दे] कच्छ, लगाट, 'खेवत्तं भोवडादीय' (निद्र १) ।
 भोअण न [भोजन] १ भक्षण, खाना । २ भात आदि दाद्य वस्तु (आचा, ठा ६, उवा प्रासू १८०, स्वप्न ६२, सण) । ३ लगावार सतरह दिनों का उपवास (सबोध ५८) । ४ उपभोग, 'विष्यह्वाइ काममोगाई सगारंभवि भोयणाए' (सुप्र २, १, १७) । ०रुत्त पु [वृक्ष] भोजन देनेवाली एक फलवृत्त-वृत्ति (पउम १०२, ११६) ।
 भोअल (धप) पु [दे भोल] छंद निरूपण (पिग) ।

सिंह, केसरी (पउम २, १७, उप पु ३०) ।
 °लंछण पुं [°लाञ्छन] चन्द्रमा (पात्र, कुमा, सुर १३, ५३) । °लोअणा स्त्री [°रोचना] गोरोचन, गोरोचना, पीत-वर्ण ब्रह्म-विशेष (अभि १२७) । °रि पुं [°रि] सिंह (पात्र) । °रिदमण पु [°रिदमन] राक्षस-वश का एक राजा, एक लका-पति (पउम ५, २६२) । °रिधि पु [°धिप] सिंह, केसरी (पात्र, स ९) । देखो मिअ, मिग = मृग ।

मयक } देखो मिअरु (हे १, १७७, १८०,
 मयंग } कुमा, षड्; गा ३९९, रभा) ।

मयंग देखो मायंग = मातंग, 'कूबर वरुणो भिउडी गोमहो वामण मयंगो' (पव २६) ।

मयंग पु [मृदङ्ग] वाद्य-विशेष (प्राकृ ८) ।

मयगय पुं [मतङ्गज] हाथी, हस्ती (पउम ८०, ६९, उप पु २६०) ।

मयगा स्त्री [मृतगङ्गा] जहाँ पर गंगा का प्रवाह रुक गया हो वह स्थान (शाया १, ४—पत्र ९६) ।

मयतर न [मतान्तर] भिन्न मत, अन्य मत (भग) ।

मयद देखो मइद = मुनेन्द्र (सुपा ९२) ।

मयध वि [मदान्ध] मद के कारण अन्धा बना हुआ, मदोन्मत्त (सुर २, ६६) ।

मयग वि [मृतक] १ मरा हुआ । २ न. मुर्दा (शाया १, ११, कुप्र २६, श्रौप) । °किञ्च न [°कृत्य] श्राद्ध आदि कर्म (शाया १, २) ।

मयड पु [दे] आराम, वगीचा (दे ६, ११५) ।

मयण पु [मदन] १ कन्दर्प, कामदेव (पात्र, घण २५, कुमा, रभा) । २ लक्ष्मण का एक पुत्र (पउम ९१, २०) । ३ एक वणिक्-पुत्र (सुपा ६१७) । ४ छन्द का एक भेद (पिंग) । ५ वि. मद-कारक, मादक, 'मयणा दरनिचलिया निव्वलिया जह कोह्वा तिविहा' (विमे १२२०) । ६ न मीन, मोम, 'मयणो मयण विअ विलोणो' (घण २५, पात्र, सुर २, २६६) । °धरिणी स्त्री [°गृहिणी] काम प्रिया, रति (कुप्र १०६) । °तालक पु

[°तालङ्क] छन्द-विशेष (पिंग) । °तेरसी स्त्री [°त्रयोदशी] चैत्र मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि (कुप्र ३७८) । °दुम पुं [°द्रुम] वृक्ष-विशेष (से ७, ६६) । °फल न [°फल] फल-विशेष, मैनफल, 'तत्रो तेणुण्यल मयणफलेण भाविय मणुस्सहत्थे दिन्नं, एय वरइस्स देजाहि' (सुत २, १७) । °मजरी स्त्री [°मञ्जरी] १ राजा चण्डप्रद्योत की एक स्त्री का नाम । २ एक श्रेष्ठि-कन्या (महा) । °रेहा स्त्री [°रेखा] एक युवराज की पत्नी (महा) । °वेय पुं [°वेग] पुरुष-विशेष का नाम (भवि) । °सुदरी स्त्री [°सुन्दरी] राजा श्रीपाल की एक पत्नी (सिरि ५३) । °ह्रा स्त्री [°गृह] छन्द-विशेष (पिंग) । °हल देखो °फल, 'मयणहलगंधो ता उव्वमिया चद-हाससुरा' (धर्मवि ९४) ।

मयणकुस पु [मदनाकुशा] श्रीरामचन्द्र का एक पुत्र, कुश (पउम ९७, ९) ।

मयणसलागा } स्त्री [दे. मदनशालाका]
 मयणसलाया } मैना, सारिका (जीव १ टी—पत्र ४१, दे ६, ११६) ।

मयणसाला स्त्री [दे मदनशाला] सारिका-विशेष (पणह १, १—पत्र ८) ।

मयणा स्त्री [दे. मदना] मैना, सारिका (उप १२६ टी, अत्र १) ।

मयणा स्त्री [मदना] १ वैरोचन बलीन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १—पत्र ३०२) । २ शक्र के लोकपाल की एक स्त्री (ठा ४, १—पत्र २०४) ।

मयणाय पु [मैनाक] १ द्वीप-विशेष । २ पर्वत-विशेष (भवि) ।

मयणिज्ज देखो मदणिज्ज (कप्प, पणण १७) ।

मयणिवास पु [दे] कन्दर्प, कामदेव (दे ६, १२६) ।

मयर पु [मकर] १ जलजन्तु-विशेष, मगर-मच्छ (श्रौप, सुर १३, ४६) । २ राशि-विशेष, मकर राशि (सुर १३, ४६, विचार १०६) । ३ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २६) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) । °केउ पुं [°केतु] कामदेव, कन्दर्प (कप्प) । °छय पुं [°ध्वज] वही (पात्र, कुमा, रभा) । °लंछण पु [°लाञ्छन] वही (कप्प, पि

५४) । °हर पुन [°गृह] वही (पात्र, से १, १८; ४, ४८, वजा १५४, भवि) ।

मयरंद पु [दे मकरन्द] पुष्प-रज, पुष्प-पराग (दे ६, १२३, पात्र, कुमा ३, ५८) ।

मयरद पुं [मकरन्द] पुष्प-रस, पुष्प-मधु (दे ६, १२३, सुर ३, १०, प्रासू ११३ कुमा) ।

मयल देखो मइल = मलिन (सुपा २६२) ।

मयलणा देखो मइलणा (सुपा १२४, २०६) ।

मयलवुत्ती [दे] देखो मइलपुत्ती (दे ६, १२५) ।

मयलिअ देखो मलिणिअ (उप ७२८ टी) ।

मयल्लिगा स्त्री [मतल्लिका] प्रधान, श्रेष्ठ, 'कूडक्खरविओ(उ)मयल्लिगाण' (रभा १७) ।

मयह देखो मगह । °सामिय पु [°स्वामिन्] मगध देश का राजा (पउम ९१, ११) ।

°पुर न [°पुर] राज-गृह नगर (वसु) ।

°रिधि पुं [°धिपति] मगध देश का राजा (पउम २०, ४७) ।

मयहर पुं [दे] १ ग्राम-प्रधान, ग्राम-प्रवर, गाँव का मुखिया (पव २६८, महा, पउम ९३, १६) । २ वि वडील, मुखिया, नायक, 'सयलहत्थारोहपहाणमयहरेण' (स २८०, महानि ४, पउम ९३, १७) । स्त्री °रिगा, °रिया, °री (उप १०३१ टी, सुर १, ४१, महा, सुपा ७६, १२६) ।

मयाई स्त्री [दे] शिरो-माला (दे ६, ११५) ।

मयार पुं [मकार] १ 'म' अक्षर । २ मकारादि अक्षरलाल—अवाच्य शब्द, 'जत्थ जयार-मयार समणी जपइ गिहत्थपच्चक्व' (गच्छ ३, ४) ।

मयाल (अप) देवो मराल (पिंग) ।

मयालि पु [मयालि] जैन महर्षि-विशेष—१ एक अन्तर्द्ध मुनि (अत १४) । २ एक अनुत्तर-नामी मुनि (अनु १) ।

मयाली स्त्री [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता (दे ६, ११६, पात्र) ।

मर अक [मृ] मरना । मरइ, मरण (हे ४, २३४; भग, उव, महा, षड्), मर (हे ३, १४१) । मरिजइ, मरिजउ (भवि, पि ४७७) ।

भुका मरही, मरीअ (आचा, पि ४६६) । भवि. मरिस्ससि (पि ५२२) । वक्क मरंत,

भोह्लय न [दे] पाथेय-विशेष, प्रबन्ध-प्रवृत्त
पाथेय (दे ६, १०८) ।

भोवाल (अप) देखो भू-वाल (भवि) ।
भोहा (अप) देखो भू = भू (पिग) ।

भ्रात्र (अप) देखो भति = भ्रान्ति (हे ४,
३६०) ।

॥ इम सिरिपाइअसहमहण्णवन्मि भभाराइसहसकलणो
तीसइमो तरगो समत्तो ॥

म

म पु [म] श्रोष्ठ स्थानीय व्यञ्जन वर्ण विशेष
(प्राप) ।

म अ [मा] मत, नहीं (हे ४, ४१८, कुमा,
पि ६४, ११४, भवि) ।

मअआ ली [मृगया] शिकार (अभि ५५) ।

मइ ली [मृति] मौत, मरण (सुर २, १४३) ।

मइ ली [मति] १ बुद्धि, मेधा, मनोपा-
'मेहा मई मणीसा' (पाम्र, सुर २, ६५,
कुमा, प्रासू ७१) । २ ज्ञान-विशेष, इन्द्रिय

श्रीर मन से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान (आ ४,
४, एदि, कम्म ३, १८, ४, ११, १४,
विसे ६७) । ३ अज्ञान न [अज्ञान] विपरीत

मति-ज्ञान, मिथ्यादर्शन-युक्त मति-ज्ञान (भग
विसे ११४, कम्म ४, ४१) । ४ णाण,
०णाण, ०नाण न [ज्ञान] ज्ञान-विशेष

(विसे १०७, ११४, ११७, कम्म १, ४) ।
०नाणावरण न [ज्ञानावरण] मति-ज्ञान

का आवरण कर्म (विसे १०४) । ०नाणि
वि [ज्ञानिन्] मति-ज्ञानवाला (भग) ।

०पत्तिथा ली [पात्रिणा] एक जैन धुनि-
शाखा (कप्य) । ०ठभस पु [अश] बुद्धि-

विनाश (भग, सुपा १३४) । ०म, ०मत,
०चत वि [मत्] बुद्धिमान् (शोध ६३०,
शाचा, भवि) ।

मइ देखो मई = मृषी (कुम ४४) ।

मइअ वि [मत्त] मद-युक्त, उन्मत्त (से ७,
६६, गा ४६८, ५०६, ७६१) ।

मइअ देखो मा = मा ।

मइअ वि [दे मतिऋ] १ भर्त्सित, तिरस्कृत
(दे ६, ११४) । २ न बोये हुए बीजो के

आच्छादन के काम में लगती एक काष्ठ-मय
वस्तु, खेती का एक श्रौजार, 'नगले मह्य

सिया' (दस ७, २८, परह १, १—पत्र ८) ।
०मइअ वि [मय] व्याकरण-प्रसिद्ध एक

तद्धित-प्रत्यय, निवृत्त, बना हुआ, 'बम्ममइएहि
अइसुदरोहि' (उव), 'जिएणपडिय गोसीसचंद

एमइय' (महा) ।
मइआ ली [मृगया] शिकार (सिरि १११५) ।

मइद पु [मैन्द] राम का एक सेनिक, वानर-
विशेष (से ४, ७, १३, ८३) ।

मइद पु [मृगेन्द्र] १ सिंह, पचानन (प्राक
३०, सुर १६, २४२, गउड) । २ छन्द का

एक भेद (पिग) ।
मइज्ज देखो मईअ = मदीय (पड) ।

मइत्तो अ [मत्] मुकुसे (प्राप) ।
मइमोहणी ली [दे मतिमोहनी] सुरा,

मदिरा, दाह (दे ६, ११३, पड) ।
मइरा ली [मदिरा] ऊपर देखो (पाम्र, से

२, ११, गा २७०, दे ६, ११३) ।
मइरेय न [मैरेय] ऊपर देखो (पाम्र) ।

मइल वि [मलिन] मैला, मत-युक्त, अस्वच्छ
(हे २, ३८, पाम्र, या ३४, प्रासू २५,

भवि) ।
मइल पु [दे] कलवत्त, कोलाहल (दे ६,
१४२) ।

मइल वि [दे मलिन] गत-तेजस्क, तेज
रहित, फीका (दे ६, १४२, से ३, ४७) ।

मइल सक [मलिनय] मिला करना, मलिन
बनाना । मइलइ, मइलेइ, मइलति, मइलति

(भवि, उव, पि ५५६) । कर्म मइलियइ
(भवि, पि ५५६) । वक मइलत (पउम २,
१००) । क मइलियञ्च (स ३६६) ।

मइल अक [दे मलिन्या] तेज रहित
होना, फीका लगना । वक, मइलत (से ३,

४७, १०, २७) ।
मइलण न [मलिनना] मलिन करना (गउड) ।

मइलणा ली [मलिनना] १ ऊपर देखा
(शोध ७८८) । २ मासिन्य, मलिनता । ३

कलक, 'लहइ कुल मइलण जेण' (सुर ६,
१२०), 'इमाए मइलणए अमुगम्मि तपत्ता

यासन्ने नग्गोहपायवे उव्वयणेण अताएयं
परिच्चइइ ववसिओ चक्कदेयो' (स ६४) ।

मइलपुत्ती ली [दे] पुण्यवती, रजःप्रता ली
(पड) ।

मइल्लिअ वि [मल्लिनित] मलिन किया हुआ
(वाचक ६५, पि ५५६, भवि) ।

मइल्ल वि [मूल] मरा हुआ । लो 'इमि-
'एव खलु मामो । पउमावती देवो मदल्लिय

दारिय पयाया । तए ए वरुणपरदे राया गेठ
मइल्लियाए दारियाए नीहरण कर्त्त, यूपि

लोइयां मवत्तिचाइ' (एणा १, १८—ग
१८६) ।

मइहर पु [दे] धाम प्रवान, पान का पुचिम
(दे ६, १२१) । देखो मयहर ।

मरुल पु [दे] भूत-पिशाच (दे ६, ११४) ।
मरुवय देखो मरुअअ (गा ६७७, कुमा, विक्र
२६) ।

मरुस देखो मरिस । मरसिज (भवि) ।

मल सक [मल्] धारण करना (भग ६,
३३ टी—पत्र ४८०) ।

मल देपो मद् । मलद्, मलेद् (हे ४, १२६,
प्राक् ६८, भवि), मलेमि (से ३, ६३), मलेति
(सुर १, ६७) । कर्म मलिज्ज (पचा १६,
१०) । वक्क मलेत्त (से ४, ४२) । कवक्क.
मलिज्जत्त (से ३, १३) । सक्क मलिज्जण,
मणिज्जण (कुमा, पि ५८५) । क्क मलेव्व
(वै ६६, निसा ३) ।

मल पु [दे] स्वेद, पसीना (दे ६, १११) ।

मल पुंन [मल] १ मैल (कुमा, प्राक् २५) ।
२ पाप (कुमा) । ३ वँधा हुआ कर्म (चैद्य
६२२) ।

मलपिअ वि [दे] गर्वी, अहकारी (दे ६,
१२१) ।

मलण न [मर्दन, मलन] मर्दन, मलना
(सम १२५, गउड, दे ३, ३४, सुपा ४४०,
पचा १६, १०) ।

मलय पु [दे मलक] आस्तरण-विशेष (गाया
१, १—पत्र १३, १, १७—पत्र २२६) ।

मलय पु [दे मलय] १ पहाड का एक भाग
(दे ६, १४४) । २ उद्यान, बगीचा (दे ६,
१४४, पात्र) ।

मलय पु [मलय] १ दक्षिण देश में स्थित
एक पर्वत (सुपा ४५६, कुमा, पड्) । २
मलय-पर्वत के निकट-वर्ती देश विशेष (पत्र
२७५, पिग) । ३ छन्द-विशेष (पिग) । ४
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १४३) । ५ न
श्रीखण्ड, चन्दन (जीव ३) । ६ पुत्री मलय
देश का निवासी (परह १, १) । ७ केड पु
[कलु] एक राजा का नाम (सुपा ६०७) ।
८ गिरि पु [गिरि] एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य
और ग्रन्थकार (इक, राज) । ९ चंद पु
[चन्द्र] एक जैन उपासक का नाम (सुपा
६४५) । १० हिं पु [हिं] पर्वत-विशेष (सुपा
४७७) । ११ भव वि [भव] १ मलय देश में
उत्पन्न । २ न चन्दन (गउड) । ३ मईं छो

[मती] राजा मलयकेतु की छो (सुपा
६०७) । ४ य [य] देखो भव (राज) ।
५ रुह पु [रुह] चन्दन का पेड (सुर १,
२८) । ६ न चन्दन-काष्ठ (पात्र) ।
७ चल पु [चल] मलय पर्वत (सुपा
४५६) । ८ णिल पु [णिल] मलयाचल
से बहता शीतल पवन (कुमा) । ९ यत्त
देखो चिल (रभा) ।

मलय वि [माल्य] १ मलय देश मे उत्पन्न
(अणु) । २ न चन्दन (भवि) ।

मलयट्टी छो [दे] तक्षणी, युवति (दे ६,
१२४) ।

मलहर पुं [दे] तुमुल-ध्वनि (दे ६, १२०) ।

मलि वि [मलिन] मलवाला, मल-युक्त
(भवि) ।

मलिअ वि [मृदित] जिसका मर्दन किया
गया हो वह (गा ११०, कुमा, हे ३, १३५,
औप, गाया १, १) ।

मलिअ न [दे] १ लघु क्षेत्र । २ कुरण्ड (दे
६, १४४) ।

मलिअ वि [मलित] मल-युक्त, मलिन,
'मलमलियदेहवत्था' (सुपा १६६, गउड) ।

मलिज्जत देखो मल = मृद् ।

मलिण वि [मलिन] मैला, मल-युक्त (कुमा,
सुपा ६०१) ।

मलिणिय वि [मलिनित] मलिन किया
हुआ (उव) ।

मलीमस वि [मलीमस] मलिन, मैला
(पात्र) ।

मलेव्व देखो मल = मृद् ।

मलेच्छ देखो मिलिच्छ पि ८४, नाट—चैत
१८) ।

मल सक [मल्ल] देखो मल = मल (भग ६,
३३ टी) ।

मल पु [मल] १ पहलवान, कुरती लडने-
वाला, बाहु योद्धा (औप, कप्प, परह २,
४, कुमा) । २ पात्र, 'दीवसिहापडिपिल्लण-
मल्ले मिल्लति नीसासे' (कुप्र १३१) ।
३ भीत का अवग्रहम्भन-स्तम्भ । ४ छप्पर का
आधार-भूत काष्ठ (भग ८, ६—पत्र ३७६) ।
५ जुद्ध न [युद्ध] कुरती (कप्प, हे ४,
३८२) । ६ दिन्न पुंन [दत्त] एक राज-

कुमार (गाया १, ८) । ७ वाइ पुं [वादिन्] एक
सुविख्यात प्राचीन जैन आचार्य और
ग्रंथकार (सम्मत १२०) ।

मल्ल न [माल्य] १ पुष्प, फूल (ठ ४, ४) ।
२ फूल की गुँथी हुई माला (पात्र, औप) ।
३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (हे २, ७६) ।
४ एक देव-विमान (सम ३६) । ५ बलि,
'मल्ल ति बलीए णाम' (आव० चूर्णि० भा०
१ पत्र ३३२) ।

मल्लइ पुं [मल्लिकि, किन्] नृप-विशेष (भग,
औप, पि ८६) ।

मल्लग } न [दे. मल्लक] १ पात्र-विशेष,
मल्लय } शराव (विसे २४७ टी, पिड २१०,
तडु ४४, महा, कुलक १४, गाया १, ६,
दे ६, १४५, प्रयौ ६७) । २ चपक, पानपात्र
(दे ६, १४५) ।

मल्लय न [दे] अपूप-भेद, एक तरह का पूआ ।
२ वि कुसुम्भ से रक्त (दे ६, १४५) ।

मल्लाणी छो [दे] मातुलानी, मामी (दे ६,
११२, पात्र, प्राक् ३८) ।

मल्लि वि [मल्लिन] धारण-कर्ता (भग ६,
३३ टी) ।

मल्लि वि [माल्यिन्] माल्य-युक्त, मालावाला
(औप) ।

मल्लि छो [मल्लि] १ उन्नीसवें जिन-देव का
नाम (सम ४३, गाया १, ८, मगल १२,
पडि) । २ वृक्ष-विशेष, मोतिया का गाछ
(दे २, १८) । ३ णाह, नाह पु [नाथ]
उन्नीसवें जिन-देव (महा, कुप्र ६३) ।

मल्लि छो [मल्लि] पुष्प-विशेष (भग ६,
३३ टी) ।

मल्लिअज्जुण पु [मल्लिकार्जुन] एक राजा
का नाम (कुमा) ।

मल्लिआ छो [मल्लिका] १ पुष्प-वृक्ष-विशेष
(गाया १, ६, कुप्र ४६) । २ पुष्प-विशेष
(कुमा) । ३ छन्द-विशेष (पिग) ।

मल्लिहाण न [माल्याधान] १ पुष्प-वन्धन-
स्थान । २ केश-कलाप (भग ६, ३३ टी—
पत्र ४८०) ।

मल्ली देखो मल्लि (गाया १, ८, पउम २०-
३५, विचार १४८, कुमा) ।

मखलि पुं [मङ्गलि] एक मख-मिषु, गोशालक का पिता । °पुच पु [°पुत्र] गोशालक, आजीवक मत का प्रवर्तक एक मिषु जो पहले भगवान् महावीर का शिष्य था (ठा १०, उवा) ।

मंग सक, [मङ्ग्] १ जाना । २ साधना । ३ जानना । कर्म मगिजए (विसे २२) ।

मग पु [मङ्ग] १ धर्म (विसे २२) । २ रजन-द्रव्य-विशेष, रग के काम में आता एक द्रव्य (सिरि १०५७) ।

मंगइय देखो मगइय (निर १ १) ।

मगरिया छी [दे] वाद्य विशेष (राय) ।

मंगल पुं [मङ्गल] १ ग्रह-विशेष, अगारक ग्रह (इक) । २ न कल्याण, शुभ, क्षेम, श्रेय (कुमा) । ३ विवाह सूत्र-बन्धन (स्वप्न ४६) । ४ विघ्न-क्षय (ठा ३, १) । ५ विघ्न क्षय के लिए किया जाता इष्टदेव-नमस्कार आदि शुभ कार्य । ६ विघ्न-क्षय का कारण, दुरित-नाश का निमित्त (विसे १२, १३, २२, २३, २४, औप, कुमा) । ७ प्रशंसावाक्य, खुशामद (सूत्र १, ७, २५) । ८ इष्टार्थ-सिद्धि, वालिद्धत-प्राप्ति (कप्प) । ९ तप-विशेष, आयविल (सबोध ५८) । १० लगातार आठ दिनों का उपवास (सबोध ५८) । ११ वि इष्टार्थ-साधक, मंगल-कारक (आव ४) । °ज्मय पु [°ध्वज] मागलिक ध्वज (भग) । °तूर न [°तूर्य] मंगल-वाद्य (महा) । °दीप पु [°दीप] मागलिक दीप, देव-मन्दिर में आरती के बाद किया जाता दीपक (धर्मवि १२३, पचा ८, २३) । °पाठय पु [°पाठक] मागध, चारण (पात्र) । °पाठिया छी [°पाठिका] वीणा-विशेष, देवता के आगे सुबह और सन्ध्या में बजाई जाती वीणा (राज) ।

मगल वि [दे] १ सदृश, समान (दे ६, ११८) । २ न, अग्नि, आग । ३ डोरा बूतने का एक साधन । ४ बन्दनमाला (विसे २७) ।

मगलग पुन [मङ्गलक] स्वस्तिक आदि आठ मागलिक पदार्थ (सुपा ७७) ।

मगलसज्ज न [दे] वह खेत जिसमें बीज बोना बाकी हो (दे ६, १२६) ।

मगला छी [मङ्गला] भगवान् श्रीसुमतिनाथ की माता का नाम (सम १५१) ।

मगलालया छी [मङ्गलालया] एक नगरी का नाम (आचू १) ।

मगलावइ पुं [मङ्गलापातिन्] सौमनस-पर्वत का एक कूट (इक, ज ४) ।

मगलावई छी [मङ्गलावती] महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३, इक) ।

मगलावत्त पु [मङ्गलावर्त] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३, इक) । २ देव-विशेष (ज ४) । ३ न एक देव-विमान (सम १७) । ४ पर्वत-विशेष का एक शिखर (इक) ।

मगलिअ } वि [माङ्गलिक] १ मंगल-
मगलीअ } जनक, 'समलजीवलोअमगलिक-जम्मलाहस्स' (उतर ६०, अचु ३६, सुपा ७८) । २ प्रशंसा वाक्य बोलनेवाला, 'सुहम-गलीए' (सूत्र १, ७, २५) ।

मगल वि [मङ्गल्य, माङ्गल्य] मंगल-कारी, मंगल-जनक, मागलिक, 'पढमारो जिणुणए-गणनिबद्धमगलवित्ताइ' (वेद्य १६०, गाय १, १; सम १२२, कप्प, औप, सुर १, २३८, १५, १७३, सुपा ५५) ।

मगी छी [मङ्गी] षड्ज ग्राम की एक मूच्छंता (ठा ७—पत्र ३६३) ।

मगु पु [मङ्गु] एक सुप्रसिद्ध जैन आचार्य, आर्यमणु (एदि, ती ७, आरम २३) ।

मगुल न [दे] १ अणिष्ट (दे ६, १४५, सुपा ३३८, सूक्त ८०) । २ पाप (दे ६, १४५, वजा ८, गउड, सूक्त ८०) । ३ पुं चोर, तस्कर (दे ६, १४५) । ४ वि अशुन्दर, खराब (पात्र, ठा ४, ४—पत्र २७१, स ७१३, दस ३) । छी °ली, 'मणुली ए समएस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपएणत्ती' (उवा) ।

मगुस पु [दे] नकुल, न्यौला, भुजपरिसर्प-विशेष (दे ६, ११८, सूत्र २, ३, २५) ।

मच पु [दे] वक् (दे ६, १११) ।

मच पु [मञ्च] १ मचान, उच्चासन (कप्प, गउड) । २ गणितशास्त्र प्रसिद्ध दश योगों में तीसरा योग; जिसमें चन्द्रादि मचाकार से

रहते हैं (सुज १२—पत्र २३३) । °इमच पु [°तिमञ्च] १ मचान के ऊपर का मच, ऊपर ऊपर रखा हुआ मच (औप) । २ गणित-प्रसिद्ध एक योग जिसमें चन्द्र, सूर्य आदि नक्षत्र एक दूसरे के ऊपर रखे हुए मचों के आकार से अपस्थित होते हैं (सुज १२) ।

मची छी [मञ्चा] खटिया, खाट, 'ता धाह मचीए' (सुर १०, १६८, १६९) ।

मछुडु (अप) अ [मङ्खु] शीघ्र, जल्दी (भवि) ।

मजर पु [मज्जर] मजार, विज्ञा, विलास (हे २, १३२, कुमा) । देखो मज्जर, मज्जरी । मजरि छी [मज्जरी] देखो मजरी (औप) । मजरिअ वि [मज्जरित] मजरी-युक्त, 'मजरिओ चूनिकरो' (स ७१६) ।

मजरिआ } छी [मज्जरीका, °री] नवोत्पन्न
मजरी } सुकुमार पल्लवकार लता, वीर (कुमा, गउड) । °गुडी छी [°गुण्डी] वल्ल-विशेष, 'तोमरियुडी य मजरीगुडी' (पात्र) ।

मजार देखो मजर (हे १, २६) ।

मजिआ छी [दे] तुलसी (दे ६, ११६) ।

मजिड वि [माजिड] मजीठ रगवाला, लाल । छी °डी (कप्प) ।

मजिडा छी [मजिडा] मजीठ, रंग विशेष (कप्प, हे ४, ४३८) ।

मजोर न [मज्जोर] १ नपुर, 'हसय नेउर च मजोर' (पात्र, स ७०४, सुपा ६६) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।

मजोर न [दे] शृङ्खलक, सौकल, जजोर, सिकड (दे ६, ११६) ।

मजु वि [मञ्जु] १ सुन्दर, मनोहर (पात्र) । २ कोमल, सुकुमार (औप, कप्प) । ३ प्रिय, इष्ट (राय, ज १) ।

मजुआ छी [दे] तुलसी (दे ६, ११६, पात्र) ।

मजुल वि [मञ्जुल] १ सुन्दर, रमणीय, मधुर (सम १५२, कप्प, विपा १, ७, पात्र पिंग) । २ कोमल (गाया १, १) ।

मजुसा } छी [मञ्जुसा] १ विदेह वर्ष की
मजुसा } एक नगरी (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) । २ पिटारी, छोटी सडूक (सुपा ३२१, कप्प) ।

(हे २, १२०) । °प्प पुं [°आत्मन्] महान्
आत्मा, महा-पुरुष (पउम ११८, १२१) ।
°फल वि [°फल] महान् फलवाला (सुपा
६२१) । °वाहु पु [°वाहु] राक्षस वश का
एक राजा, एक लका-पति (पउम ५, २६५) ।

°बोह पु [°अबोध] महा-सागर,

इय वुत्त सोच रएणा

निव्वासिया तहा सुगया ।

महबोहे जतूणं जह

पुणरवि नागया तत्थं

(सम्मत्त १२०) ।

°व्वल पु [°वल] १ एक राज-कुमार
(विपा २, ७, भग ११, ११, अत) । २ वि.
विपुल बलवाला (भग, औप) । देखो महा-
वल । °व्वभय वि [°भय] महाभय-जनक
(परह १, १) । °व्वभूय न [°भूत] धृष्टिनी
आदि पांच द्रव्य (सूअ २, १, २२) । °भरुय
पु [°भरुत] एक महर्षि, अन्तकृद् मुनि-विशेष
(अत २५) । °मास पु [°अश्व] महान्
अश्व (औप) । °थर देखो °त्तर (गाया १,
१—पत्र ३७) । °रव पुं [°रव] राक्षस
वश का एक राजा, एक लका-पति (पउम ५,
२६६) । °रिसि पु [°ऋषि] महर्षि, महा-
मुनि (उव, रयण ३७) । °रिह वि [°अर्ह]
वडे के योग्य, बहु-मूल्य, कीमती (विपा १,
३, औप, पि १४०) । °वाय पु [°वात]
महान् पवन (औष ३८७) । °व्वइय वि
[°व्रतिक] महाव्रतवाला (सुपा ४७४) ।
°व्वय पु न [°व्रत] महान् व्रत, 'महव्वया
पंच हुति इमे' (पउम ११, २३), 'सेसा
महव्वया ते उत्तरयुणसजुयावि न ह्व सम्म'
(सिक्खा ४८, भग, उव) । °व्वय पु
[°व्वय] विपुल खर्च (उप वृ १०८) ।
°सलाग ली [°शलाका] पत्थ-विशेष, एक
प्रकार की नाप (जीवस १३६) । °सिव पु
[°शिव] एक राजा, पृष्ठ बलदेव और वामुदेव
का पिता (सम १५२) । °सुक्क देखो महा-
सुक्क (देन्द्र १३५) । °सेण पु [°सेन]
१ आठवें जिनदेव का पिता (सम १५०) ।
२ एक राजा (महा) । ३ एक यादव (उप
६४८ टी) । ४ न वन-विशेष (विमे
१४८४) । देखो महा-सेण । देखो महा° ।

महअर पुं [दे] गह्वर-पति, निकुञ्ज का मालिक
(दे ६, १२३) ।

महइ° अ [महाति] १ अति बडा । २ अत्यन्त
विपुल । °जड वि [°जट] अति बडी जटा-
वाला (पउम ५८, १२) । °महाइदइ पु
[°महेन्द्रजित्] इक्ष्वाकु-वंश के एक राजा
का नाम (पउम ५, ६) । °महापुरिस पुं
[°महापुरुष] १ सर्वोत्तम पुरुष, सर्व-श्रेष्ठ
पुरुष । २ जिनदेव, जिन भगवान् (पउम १,
१८) । °महालय वि [°महत्] अत्यन्त
बडा, 'महइमहालयसि ससारसि' (उवा, सम
७२) । स्त्री °लिया (भग, उवा) ।

महई देखो मह = महत् ।

महंग पुं [दे] उष्ट्र, ऊँट (दे ६, ११७) ।

महत देखो मह = महत् (आत्मा, औप, कुमा) ।

महच्च न [माहल्य] १ महत्त्व । २ महत्त्ववाला
(ठा ३, १—पत्र ११७) ।

महण न [दे] पिता का घर (दे ६, ११४) ।

महण न [मथन] १ विलोडन (से १, ४६,
वज्जा ८) । २ धर्षण (कुप्र १४८) । ३ वि.
मारनेवाला, 'वरितनागदम्पमहणा' (परह १,
४) । ४ विनाश करनेवाला, 'नाण च
चरण च भवमहण' (सबोध ३५, सुर ७,
२२५) । स्त्री °णी (श्रा ४६) ।

महण पु [महन] राक्षस वश का एक राजा,
एक लका-पति (पउम ५, २६२) ।

महणिज्ज देखो मह = महत् ।

महति° देखो महइ° (ठा ३, ४, गाया १,
१, औप) ।

महती स्त्री [महती] वीणा-विशेष, सौ ताँत-
वाली वीणा (राय ४६) ।

महत्थार न [दे] १ भारद्वाज, भाजन । २
भोजन (दे ६, १२५) ।

महत्पुर पुं [दे] माहात्म्य, प्रभाव, 'तुह
सुहचवपहाए फरिसाण महत्पुरो एसो' (रभा
४३) ।

महमह देखो मघमघ । महमहइ (हे ४, ७८,
पड, गा ४६७), महमहेइ (उव) । वक्क
महमहंत (काप्र ६१७) । सक्र महमहिअ
(कुमा) ।

महमहिअ वि [प्रसूत] १ फैला हुआ (हे १,
१४६, वज्जा १५०) । २ सुरभित (रभा) ।

महम्मह देखो महमह, 'जिअलोअसिरो महम्म-
हइ' (गा ६०४) ।

महया° देखो महा°, 'महयाहिमवंतमहंतमलय-
मदरहिंदसारे' (गाया १, १ टी—पत्र ६,
औप, विपा १, १, भग) ।

महर वि [दे] असमर्थ, अशक्त (दे ६,
११३) ।

महलयपक्ख देखो महालवक्ख (षड्—पृष्ठ
१७६) ।

महल्ल वि [दे. महत्] १ बृद्ध, बडा (दे
६, १४३, उवा, गडड, सुर १, ५४, पचा
५, १६, सबोध ४७, औष १३६, प्रासू
१४६, जय १२, सुपा ११७) । २ पृथुल,
विशाल, विस्तीर्ण (दे ६, १४३, प्रवि १०,
स ६६२, भवि) । स्त्री °लिया (औप, सुपा
११६, ५८७) ।

महल्ल वि [दे] १ पुखर, वाचाट, बकवादी
(दे ६, १४३, षड्) । २ पुं जलवि,
समुद्र (दे ६, १४३) । ३ समूह, निवह (दे
६, १४३, सुर १, ५४) ।

महल्लिर देखो महल्ल, 'हरिनहकडिणमहल्लिर-
पयनहरपरपराए विकरालो' (सुपा ११) ।

महव देखो मघव (कुमा, भवि) ।

महा स्त्री [मघा] नक्षत्र-विशेष (सम १२,
सुज्ज १०, ५, इक) ।

महा° देखो मह = महत् (उवा) । °अडड न
[°अटट] सख्या-विशेष, ८४ लाख महाअट-
टाग की सख्या (जो २) । °अडडंग न

[°अटटाङ्ग] सख्या-विशेष, ८४ लाख अटट
(जो २) । °आल देखो °काल (नाट—चैत
८२) । °ऊह न [°ऊह] सख्या-विशेष,

८४ लाख महाऊहाग की सख्या (जो २) ।

°कइ पु [°कवि] श्रेष्ठ कवि, समर्थ कवि
(गडड, चेइय ८४३, रभा) । °कदिय पुं

[°क्रन्दित] व्यन्तर देवो की एक जाति
(परह १, ४, औप, इक) । °कच्छ पुं

[°कच्छ] १ महाविदेह वर्ष का एक विजय-
क्षेत्र—प्रान्त (ठा २, ३, इक) । २ देव-

विशेष (ज ४) । °कच्छा स्त्री [°कच्छा]
अतिकाय नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी

(ठा ४, १—पत्र २०४, गाया २, इक) ।

°कण्ह पु [°कण्हण] राजा श्रेणिक का एक

मंडुगा पुं [मण्डूक] १ मेढक, दादुर, मडूअ 'मंडुगाइसरिसो खलु अहिगारो होइ मडूक सुतस्स' (वव ७, कुमा)। २ बुध-मडूर विधोष, श्योनाक, सोनापाठा। ३ नन्ध विशेष (सखि १७), 'मडूरो' (प्राप्र)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। °पुअ न [°प्लुत] भेक की चाल। २ पुं, ज्योपि-प्रसिद्ध योग-विशेष, भेक की गति की तरह होनेवाला योग (सुज्ज १२—पत्र २३३)।

मडोवर न [मण्डोवर] नगर विशेष (ती १५)।

मत सक [मन्त्रन्] १ गुप्त परामर्श करना, मसलहत करना। २ आमन्त्रण करना। मतइ (महा, भवि)। भवि-मतही (अप) (पिंग)। षड् मतत, मतयत (सुपा ५३५, ३०७, भ्रमि १२०)। सक मतिअ, मतिऊण, मतेऊण (भमि १२४, महा)।

मत पुन [मन्त्र] १ गुप्त बात, गुप्त आलोचना, 'न कहिज्जइ एसिमेरिस मत' (सिदि ६२५), 'कुट्टिस्सइ बोहिस्स म्हालाजणकहिय-मत व' (धर्मवि १३, कुमा)। २ जप्य, जाप करने योग्य प्रणवादि कक्षर-पद्धति (एया १, १४, ठा ३, ४ टी—पत्र १५६, कुमा, प्रासू १४)। °जभग पु [°जम्भक] एक देव-जाति (भग १४, न टी—पत्र ६५४)। °देवया स्त्री [°देवता] मन्त्राधिष्ठाक देव (था १)। °न्तु वि [°ज्ञ] मन्त्र का जानकार (सुपा ६०३)। °वाइ वि [°वादिच] मान्त्रिक, मन्त्र को ही श्रेष्ठ माननेवाला (सुपा ५६७)। °सिद्ध वि [°सिद्ध] १ सब मन्त्र जिसके स्वाधीन हो वह। २ बहु-मन्त्र। ३ प्रधान मन्त्रवाला, 'साहीणसन्वमतो बहुमतो वा पहाणमतो वा, नेओ स मतसिद्धो (आवम)।

मत वि [मान्त्र] मन्त्र-सम्बन्धी, मान्त्रिक। स्त्री 'मती ठकारपत्तिव' (धर्मवि २०)।

मंत देखो मा = मा।

मतक्ख न [दे] १ लज्जा, शरम। २ डु ख (दे ६, १४१)। ३ अपराध, 'ज लेइ गरुयपि एाम मतक्ख' (गड)।

मतण न [मन्त्रण] १ गुप्त आलोचना, गुप्त मसलहत (पउम ५, ६६, ८२, ४६)। २ मसलहत, परामर्श, सलाह, 'मतणत्थं हकारिओ अणोण जिणदत्तसेट्ठो' (कुप्र ११६)। ३ जाप, 'पुरो पुरो मतमतण सुहय चिइय ७६३)।

मतर देखो वतर (वप्प)।

मता अ [मत्वा] जानकार (सूअ १, १०, ६, आचा १, १, ५, १, १, ३, १, ३, पि ५८२)।

मति पुं [मन्त्रिन्] १ मन्त्री, अमात्य, दीवान (वप्प, औप, पाप्र)। २ वि मन्त्रो का जानकार (सु १२)।

मति पु [दे] विवाह-गाणक, जोशी, ज्योतिर्विद (दे ६, १११)।

मतिअ वि [मन्त्रित] गुप्त रीति से आलोचित (महा)।

मतिअ देखो मत = मन्व्य।

मतिअ वि [मान्त्रिक] मन्त्र का नाता, 'मतेण मतियस्स व वाणीए ताडिओ तुज्ज' (धर्मवि ६, मन ११)।

मतिण देखो मति = मन्त्रिन्, निग्रहिसो मति-णेहि कुसलोहि' (पउम २१, ६०, ६५, ८, भवि)।

मतु वि [मन्तु] १ जाता, जानकार। २ पु जीव, प्राणी (विले ३५२५)।

मतु देखो मण्णु (हे २, ४४, षड्, निचू २)।

°म वि [°मत] क्रोधवाला, कोप युक्त। स्त्री °मई (कुमा)।

मतु पुन [°मन्तु] अपराध, 'मतु विलिय विप्पिय' (पाप्र)।

मतुआ स्त्री [दे] लज्जा, शरम (दे ६, ११६, भवि)।

मतेलि स्त्री [दे] सारिका, मैना (दे ६, ११६)।

मथ सक [मन्थ] १ विलोडन करना। २ मारना, हिंसा करना। ३ अक क्लेश पाना। मथइ (हे ४, १२१, प्राक ३३, षड्)। क्वक्क मथिज्जत, मथिज्जमाण, मच्छत (पउम ११३, ३३, सुपा २५१, १६५, परइ १, ३—पत्र ५३)। सक, मथित्तु (सम्मत् २२६)।

मथ पु [मन्थ] १ दही विलोने—महने का दण्ड, मयनी (पिसे ३८४)। २ केवलि सपुत्र के समय मन्थाकार किया जाता जीव प्रेयो समूह (ठा ६, औप)।

मथ (अप) देखो मत्थ = मस्त (पिंग)।

मथण न [मन्थन] १ विलोडन, विलोने की क्रिया, 'खीरोअमयणुच्छलिअदुदिततो व महमहणो' (गा ११७)। २ धर्षण, 'मण्ण जोए अण्णो' (सदोव १)। ३ पुन मयने, दही आदि मयने की लकड़ी (प्राक १४)।

मथणिआ स्त्री [मन्थनिका] १ मक्की, महानी, दही मयने की छोटी लकड़ी (रव)। २ मयानी, दधि-कलशी, दही महने की हौंसा (दे २, ६५)।

मथणी स्त्री [मन्थनी] ऊपर देखो (दे २, ५५)।

मथर वि [मन्थर] १ मन्त्र, धोमा (दे १, ३८, गड, पाप्र, सुपा १)। २ विलोडने होनेवाला (पचा ६, २२)। ३ पु, मन्त्र दण्ड, 'धोसाममथरायमाणसेलवोचिइण्ण' वडण्णो' (गड)।

मथर वि [दे मन्थर] १ कुटिल, बक, दहा (दे ६, १४५, भवि)। २ स्त्री, कुसुम बुध-विशेष, कुसुम का पेड़ (दे ६, १५५) स्त्री °रा, 'मथरा कुसुमो' (पाप्र)।

मथर वि [दे] बहु, प्रउर, प्रसुत (दे १, १४५, भवि)।

मथरिय वि [मन्थरित] मन्थर किया (गड)।

मथाण पु [मन्थान] १ विलोडन-क 'तत्तो विसुद्धपरिणाममेवमाणमहिम लहो' (धमवि १०७, दे ६, १४१, व ४, पाप्र, सपु १५०)। २ छर्दि (पिंग)।

मथिअ वि [मथित] विलोडित (दे २, पाप्र)।

मथु पुन [दे] १ बदरादि द्रव्यं (परइ उत ८, १२, सुख ८, १२, वस ५, १ ५, २, २४, आचा)। २ द्रव्यं, द्रव, (आचा २, १, ८, ८)। ३ द्रव का विशेष, मडुा और माखन के बीच की चाला पदार्थ (पिड २८२)।

(ठा ५, ३—पत्र ३५१) । °पउम पु [°पद्म] १ भरतक्षेत्र का भावी प्रथम तीर्थंकर (सम १५३) । २ पुडरीकिणी नगरी का एक राजा और पीछे से राजर्षि (गाया १, १६—पत्र २४३) । ३ भारतवर्ष में उत्पन्न नववाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५२, पउम २०, १४३) । ४ भरतक्षेत्र का भावी नववाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । ५ एक राजा (ठा ६) । ६ एक निधि (ठा ६—पत्र ४४६) । ७ एक ब्रह्म (सम १०४, ठा २, ३—पत्र ७२) । ८ राजा श्रेणिक का एक पौत्र (निर १, १) । ९ देव-विशेष (दीव) । १० वृक्ष-विशेष (ठा २, ३) । ११ न. सख्या-विशेष, महापद्माग को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (जो २) । १२ एक देव-विमान (सम ३३) । °पउमअग न [°पद्माङ्ग] सख्या-विशेष, पद्म को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (जो २) । °पउमा स्त्री [°पद्मा] राजा श्रेणिक की एक पुत्र वधू (निर १, १) । °पडिय वि [°पण्डित] श्रेष्ठ विद्वान् (रमा) । °पट्टण न [°पत्तन] बड़ा शहर (उवा) । °पण, °पन्न वि [°प्रज्ञ] श्रेष्ठ बुद्धिवाला (उप ७७३, पि २७६) । °पभ न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम १३) । °पभा स्त्री [°प्रभा] एक राज्ञी (उप १०३१ टी) । °पम्ह पु [°पद्म] महाविदेह वर्ष का एक विजय—प्रान्त (ठा २, ३) । °परिण्णा, °परिन्ना स्त्री [°परिज्ञा] आचार्य सूत्र के प्रथम श्रुतस्वरूप का सातवाँ अध्येयन (राज, आक) । °पसु पु [°पशु] मनुष्य (गउड) । °पह पु [°पथ] बड़ा रास्ता, राज-मार्ग (भग, परह १, ३, औप) । °पाण न [°प्राण] ब्रह्मलोक-स्थित एक देव-विमान (उत्त १८, २८) । °पायाल पु [°पाताल] बड़ा पातान-कलश (ठा ४, २—पत्र २२६, सम ७४) । °पालि स्त्री [°पालि] १ बड़ा पत्न्य । २ सागरोपम-परिमित भव-स्थिति—ग्रायु, 'अहमासि महापापे
बुद्धम वरिससओवमे ।
जा सा पालिमहानाली दिव्वा
वरिससओवमा'
(उत्त १८, २८) ।

°पिड पु [°पितृ] पिता का बड़ा भाई (विपा १, ३—पत्र ४०) । °पीठ पु [°पीठ] एक जैन महर्षि (सट्टि ८१ टी) । °पुंख न [°पुङ्ख] एक देव-विमान (सम २२) । °पुड न [°पुण्ड्र] एक देव-विमान (सम २२) । °पुडरीय न [°पुण्डरीक] १ विशाल श्वेत कमल (राय) । २ पु ग्रह-विशेष (सम १०४) । ३ देव-विशेष । ४ देवी °पुडरीअ (राज) । °पुर न [°पुर] १ एक विद्याधर-नगर (इक) । २ नगर-विशेष (विपा २, ७) । °पुरा स्त्री [°पुरी] महापद्म-विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०) । °पुरिस पु [°पुरुष] १ श्रेष्ठ पुरुष (परह २, ४) । २ किंपुरुष-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । °पुरी देवी °पुरा (इक) । °पौंडरीअ न [°पुण्डरीक] एक देव-विमान (स ३३) । देवी °पुडरीय (ठा २, ३—पत्र ७२) । °फल देवी मह-पफल (उवा) । °फलह न [°स्फटिक] शिखरी पर्वत का एक उत्तर-दिशा-स्थित कूट (राज) । °वल वि [°वल] १ महान् बलवाला (भग) । २ पु ऐरवत क्षेत्र का एक भावी तीर्थंकर (सम १५४) । ३ चक्रवर्ती भरत के वंश में उत्पन्न एक राजा (पउम ५, ४, ठा ८—पत्र ४२६) । ४ सोमवशीय एक नर-पति (पउम ५, १०) । ५ पाँचवें बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम (पउम २०, १६०) । ६ भारतवर्ष का भावी छठवाँ वासुदेव (सम १५४) । °वाहु पु [°वाहु] १ भारत-वर्ष का भावी चतुर्थ वासुदेव (सम १५४) । २ रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३०) । अपर विदेह-वर्ष में उत्पन्न एक वासुदेव (आव ४) । °भद् न [°भद्र] तप-विशेष (पत्र २७१) । °भद्प-डिमा स्त्री [°भद्रप्रतिमा] नीचे देवी (औप) । °भद्दा स्त्री [°भद्रा] व्रत विशेष, कायोत्सर्ग-ध्यान का एक व्रत (ठा २, ३—पत्र ६४) । °भय देवी मह-भय (आवा) । °भाअ, °भाग वि [°भाग] महानुभाव, महाशय्य (अमि १७४, महा, सुपा १६८, उप पृ ३) । °भीम पु [°भीम] १ राक्षसी का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ भारतवर्ष का भावी आठवाँ प्रतिवासुदेव

(सम १५४) । ३ वि. बड़ा भयानक (दंस ४) । °भीमसेण पु [°भीमसेन] एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०) । °भुअ पु [°भुज] देव-विशेष (दीव) । °भुअग पु [°भुजङ्ग] शेष नाग (से ७, ५६) । °भोया स्त्री [°भोगा] एक महा-नदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१) । °भउद पुन [°मुकुन्द] वाद्य-विशेष (भग) । °मति पु [°मन्त्रिन्] १ सर्वोच्च अमात्य, प्रधान मन्त्री (औप, सुपा २२३, गाया १, १) । २ हस्ति-सैन्य का अध्यक्ष (गाया १, १—पत्र १६) । °मस न [°मास] मनुष्य का मास (कप्पू) । °मच्च पु [°अमात्य] प्रधान मन्त्री (कुमा) । °मत्त पुं [°मात्र] हस्तिपक, हाथी का महावत, 'तत्तो नरसिंहनिवस्स कुजरा
सिहभयविहुरहियया ।
अवगणियममहामत्ता मत्तावि
पलाइया भक्ति'
(कुप्र ३६४) ।

°मरुया स्त्री [°मरुता] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत) । °मह पु [°मह] महो-त्सव (आव ४) । °महत वि [°महत्] अति बड़ा (सुपा ५६४, स ६६३) । °माई (अप) स्त्री [°माया] छन्द-विशेष (पिंग) । °माउया स्त्री [°मातृका] माता की बड़ी बहन (विपा १, ३—पत्र ४०) । °माडर पु [°माठर] ईशानेन्द्र के रथ-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०३, इक) । °माणसिखा स्त्री [°मानसिका] एक विद्या-देवी (सति ६) । °माहण पु [°ब्राह्मण] श्रेष्ठ ब्राह्मण (उवा) । °मुणि पु [°मुनि] श्रेष्ठ साधु (कुमा) । °मेह पु [°मेघ] बड़ा मेघ (गाया १, १—पत्र ४, ठा ४, ४) । °मेह वि [°मेघ] बुद्धिमान् (उप १४२ टी) । °भोक्ख वि [°मूर्ख] बड़ा वेवकूप (उप १०३१ टी) । °यण पु [°जन] श्रेष्ठ लोग (सुपा २६१) । °यस देवी °जस (औप, कप्पू) । °रक्खस पु [°राक्षस] लका नगरी का एक राजा जो धनवाहन का पुत्र था (पउम ५, १३६) । °रह पुं [°रथ] १ बड़ा रथ (परह २, ४—पत्र १३०) । २ वि. बड़ा रथवाला । ३ बड़ा योद्धा, वस

मक्ख सक [मक्ख] १ चुपडना, स्नेहान्वित करना । २ धी, तेल आदि स्निग्ध द्रव्य से मालिश करना । मक्खइ (पड्), मक्खति (उप १४७ टी), मक्खज्ज, मक्खेज्ज, (आचा २, १३, २, ३) । हेक्क मक्खेत्तए (कस) । क्क मक्खियव्व (श्रोघ ३८५ टी) ।

मक्खण न [मक्खण] १ मक्खन, नवनीत (स २५८, पभा २२) । २ मालिश, अभ्यंग (निच्च ३) ।

मक्खर पुं [मक्खर] १ गति । २ ज्ञान । ३ वश, वास । ४ छिद्रवाला वाँस (सत्ति १५, पि ३०६) ।

मक्खिअ वि [मक्खित] चुपडा हुआ (पाअ, दे न, ६२, श्रोघ ३८५ टी) ।

मक्खिअ न [माक्खिक] मक्खिका-सचित्त मधु (राज) ।

मक्खिअा जी [मक्खिका] मक्खी (दे ६, १२३) ।

मगइअ वि [दे] हस्त-पाशित, हाथ में बांधा हुआ (विपा १, ३—पत्र ४८, ४९) ।

मगण पु [मगण] छन्द शास्त्र-प्रसिद्ध तीन गुरु अक्षरों की सज्ञा (पिग) ।

मगदतिआ जी [दे] १ मालती का फूल । २ मोगरा का फूल, 'कुमुद्रं वा मगदतिअ' (दस ५, २, १४, १६) ।

मगदतिआ जी [दे मगदन्तिआ] १ मेवी या मेहँदी का गाछ । २ मेवी की पत्ती (दस ५, २, १४, १६) ।

मगर पुं [मकर] १ मगर-मच्छ, जलजन्तु-विशेष (पणह १, २, श्रौप, उव, सुर १३, ४२, खाया १, ४) । २ राहु (सुज्ज २०) । देखो मयर ।

मगरिया जी [मकरिका] वाद्य-विशेष (राय ४६) ।

मगसिर छोन [मगसिरस्] नक्षत्र विशेष, 'कत्थि रोहिणी मगसिर अद्दा य' (ठा २, ३—पत्र ७७) । जी 'रा, 'दो मगसिराओ' (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

मगह देखो मागह । 'तित्थ न [तीर्थ] तीर्थ-विशेष (इक) ।

मगह } पुं व [मगध] देश विशेष (कुमा) ।
मगहा } वरच्छ [वराक्ष] आभरण-विशेष

(श्रौप पृ ४८ टि) । 'पुर न [पुर] नगर-विशेष (महा) । देखो मयह ।

मगा अ [दे] पश्चात्, पीछे, मराठी में 'मग' (दे १, ४, टी) ।

मगद देखो मउद = मुकुन्द (उत्तनि ३) ।

मग्ग सक [मार्ग्य] १ मार्गना । २ खोजना । मग्गइ, मग्गति (उव, षड्, हे १, ३४) । वक्क मग्गत, मग्गमाण (गा २०२, उप ६४८ टी; महा, सुपा ३०८) । संक्क मग्गेविणु (अप) (अपि) । हेक्क मग्गिअ (महा) । क्क मग्गिअव्व, मग्गेयव्व (से १४, २७, सुपा ५१८) ।

मग्ग सक [मग्] गमन करना, चलना । मग्गइ (हे ४, २३०) ।

मग्ग पु [मार्ग] १ रास्ता, पथ (श्रोघ ३४, कुमा, प्रासु ५०, ११७, भग) । २ अन्वेषण, खोज (विसे १३८१) । 'ओ अ [तस्] रास्ते से (हे १ ३७) । 'णु वि [ङ्] मार्ग का जानकार (उप ६४४) । 'त्थ वि [स्थ] १ मार्ग में स्थित । २ सोलह से ज्यादा वर्ष की उम्रवाला (सूत्र २, १, ६) । 'दय वि [दय] मार्ग-दर्शक (भग, पडि) । 'विअ वि [विन्] मार्ग का जानकार (श्रोघ ८०२) । 'ह वि [घ] मार्ग-नाशक (श्रु ७४) । 'णुसारि वि [णुसारि] मार्ग का अनुयायी (धर्म २) ।

मग्ग पुं [मार्ग] १ आकाश (मग २०, २—पत्र ७७५) । २ आवश्यक-कर्म, सामयिक आदि पट्-कर्म (अपु ३१) ।

मग्ग } पु [दे] पश्चात्, पीछे (दे ६,
मग्गअ } १११, से १, ५१, सुर २, ५६,
पाअ, भग) ।

मग्गअ वि [मार्गक] मार्गनेवाला (पउम ६६, ७३) ।

मग्गण पुं [मार्गण] १ याचक (सुपा २४) । २ दाण, शर (पाअ) । ३ न अन्वेषण, खोज (विसे १३८१) । ४ मार्गण, विचारणा, पर्यालोचन (श्रौप, विसे १८०) ।

मग्गण } जी [मार्गणा] १ अन्वेषण,
मग्गणया } खोज (उप पृ २७६, उप ६६२,
मग्गणा } श्रोघ ३) । २ अन्वय-धर्म के पर्यालोचन द्वारा अन्वेषण, विचारणा, पर्यालोचना (कम्म ४, १, २३, जीवस २) ।

मग्गणया जी [मार्गणा] ईहा-ज्ञान, ऊहापोह (एदि १७५) ।

मग्गणिर वि [दे] अनुगमन करने की आदतवाला (दे ६, १२४) ।

मग्गसिर पु [मार्गसिर] मास-विशेष, मगसिर मास, अगहन (कम्प, हे ४, ३५७) ।

मग्गसिरी जी [मार्गसिरी] १ मगसिर मास की पूर्णिमा । २ मगसिर की अमावस (सुज्ज १०, ६) ।

मग्गिअ वि [मार्गित] १ अन्वेषित, गलेपित (से ६, ३६) । २ मार्ग हुआ, याचित (महा) ।

मग्गिर वि [मार्गित्] खोज करनेवाला (सुपा ५८) ।

मग्गिइ वि [दे] पश्चात्, पीछे का (विसे १३२६) ।

मग्गु पु [मद्गु] पक्षि-विशेष, जल काक (सूत्र १, ७, १५, हे २, ७७) ।

मघ पु [मघ] मेघ (भग ३, २, पण २) ।

मघमघ अक [म्र + स्] फैलना, गन्ध का पसरना, गुजराती में 'मघमघु', मराठी में 'मघमघण्' । वक्क मघमघत, मघमघित, मघमघेत (सम १३७, कम्प, श्रौप) ।

मघव पु [मघवन] १ इन्द्र, देव-राज (कम्प, कुमा ७, ६४) । २ तृतीय चक्रवर्ती राजा (सम १५२, पउम २०, १११) ।

मघवा जी [मघवा] छठवीं नरक-भूमि, 'मघव ति माघवत्थि य पुढवीण नामधेयाइ' (जीवस १२) ।

मघा जी [मघा] १ ऊपर देखो (ठा ७—पत्र ३८८, इक) । २ देवी महा = मघा (राज) ।

मघोण पु [दे मघवन्] देखो मघव (पड्, पि ४०३) ।

मच्च अक [मच्च] गर्व करना । मच्चइ (पड्, हे ४, २२५) ।

मच्च (अप) देखो मच, 'मकुणमच्चइ सुत्त वराइ' (अपि) ।

मच्च न [दे] मल, मैल (दे ६, १११) ।

मच्च } पु [मत्थ] मनुष्य, मानुष (उ
मच्चिअ } २०८, रंभा, पाअ, सूत्र १, ८,
२, आचा) । 'लोअ पु [लोक] मनुष्य-

महाणसि वि [महानसिन्] रसोई बनाने-
वाला, रसोइया । बी. °णी (गाया १, ७—
पत्र ११७) ।
महाणसिय वि [महानसिक] ऊपर देखो
(विपा १, ८) ।
महाविल न [दे महाविल] व्योम, आकाश
(दे ६, १२१) ।
महामति पु [महामन्त्रिन्] महावत, हस्ति-
पक (राय १२१ टी) ।
महारिय (अप) वि [मदीय] मेरा (जय
३०) ।
महाल पु [दे] जार, उपपति (दे ६,
११६) ।
महालक्ख वि [दे] तरुण, जवान (दे ६,
१२१) ।
महालय देखो मह = महत् (गाया १, न, उवा.
श्रीप), 'मा कासि कम्माई महालयाइ' (उत्त
१३, २६) । बी °लिया (श्रीप) ।
महालय पुन [महालय] १ उत्सवो का स्थान
(सम ७२) । २ बडा आलय । ३ वि
वृहत्काय, बडा शरीरवाला (सूअ २, ५, ६) ।
महालयक्ख पु [दे महालयपक्ष] आद्ध-पक्ष,
आश्विन (शुजराती भाद्रपद) मास का कृष्ण
पक्ष (दे ६, १२७) ।
महावल्ली बी [दे] नलिनी, कमलिनी (दे ६,
१२२) ।
महाविजय पु [महाविजय] एक देवविमान
(आचा २, १५, २) ।
महासउण पु [दे] उल्लू, ब्रुक-पक्षी (दे ६,
१२७) ।
महासदा बी [दे] शिवा, शृगाली (दे ६,
१२०, पाअ) ।
महासेल वि [माहारौल] महाशैल नगर से
सबन्ध रखनेवाला, महाशैल का (पउम ५५,
५३) ।
महि° देखो मही (कुमा) । °अल न [°तल]
नू-बीठ, भूमि-शृष्ठ (कुमा, गउड, प्रासू ५५) ।
°गोयर पु [°गोचर] मनुष्य (अवि, सण) ।
°पट्ट न [°पट्ट] भूमि-तल (पड्) । °पाल पु
[°पाल] राजा (उव) । °मडल न [मण्डल]
नू-मण्डल (अवि, हे ४, ३७२) । °रमण पु
[°रमण] राजा (आ २७) । °वड पु

[°पति] राजा (गाया १, १ टी, श्रीप) ।
°वड देखो °पट्ट (हे १, १२६, कुमा) ।
°वल्लह पु [°वल्लभ] राजा (गु १०) । °वाल
पु [°पाल] १ राजा, नरपति (हे १,
२२६) । २ व्यक्ति वाचक नाम (अवि) ।
°वेढ पु [°वेष्ट, °पीठ] मही-तल, भू-तल
(से १, ४, ४६) । °सामि पु [°स्वामिन्]
राजा (कुमा) । °हर पु [°धर] १ पर्वत
(पाअ, से ३, ३८, ४, १७, कुप्र ११७) ।
२ राजा (कुप्र ११७) ।
महिअ वि [मथित] विलोडित (से २, १८,
पाअ) ।
महिअ वि [महित] १ पूजित, सत्कृत (से
१२, ४७, उवा, श्रीप) । २ न, एक देव-
विमान (सम ४१) । ३ पुजा, सत्कार (गाया
१, १) ।
महिअ वि [महीयस्] बडा, गुरु, 'राअ-
निभोओ महिओ को एाम गआगअमिह करेइ'
(मुद्रा १८७) ।
महिअदुअ न [दे] धी का किट्ट, घृत-मल
(राज) ।
महिआ बी [महिका] १ सूक्ष्म वर्षा, सूक्ष्म
जल-नुषार (पएण १, जी ५) । २ धूमिका,
ध्रुव, कुहरा (ओष ३०, पाअ) । ३ मेघ-
समूह, 'षण्णिवहो कालिआ महिआ' (पाअ) ।
देखो मिहिआ ।
महिंद पु [महेन्द्र] १ बडा इन्द्र, देवाधीश
(श्रीप, कप, गाया १, १ टी—पत्र ६) ।
२ पर्वत-विशेष (से ६, ५६) । ३ अति महान्,
खूब बडा (ठा ४, २—पत्र २३०) । ४ एक
राजा (पउम ५०, २३) । ५ ऐरवत वर्ष का
भावी १५ वॉ तीर्थंकर (पव ७) । ६ पुन
एक देव-विमान (सम २२, देवेन्द्र १४१) ।
°वत्त न [°कान्त] एक देव-विमान (सम
२७) । °केउ पु [°केतु] हनुमान के मातामह
का नाम (पउम ५०, १६) । °ज्झय पु
[°ध्वज] १ बडा ध्वज । २ इन्द्र के ध्वज
के समान ध्वज, बडा इन्द्र-ध्वज (ठा ४,
४—पत्र २३०) । ३ न एक देव-विमान
(सम २२) । °दुहिया बी [°दुहिता]
श्रवणनासुन्दरी, हनुमान की माता (पउम ५०,
२३) । °विक्रम पु [°विक्रम] इक्ष्वाकु

वश का एक राजा (पउम ५, ६) । °सीह
पुं [°सिंह] १ कुरु देश का एक राजा
(उप ७२८ टी) । २ सनत्कुमार चक्रवर्ती का
एक मित्र (महा) ।
महिंद वि [महेन्द्र] १ महेन्द्र-सम्बन्धी ।
२ उत्पात-विशेष (अणु २१५) ।
महिंदुत्तरवडिसय न [महेन्द्रोत्तरावतसक]
एक देव-विमान (सम २७) ।
महिगा देखो महिआ (जीवस ३१) ।
महिच्छ वि [महेच्छ] महत्वाकाक्षी (सूअ
२, २, ६१) ।
महिच्छा बी [महेच्छा] महत्वाकाक्षा-
अपरिमित वाञ्छा (पएह १, ५) ।
महिट्ट वि [दे] मट्टा से ससृष्ट, तक्र सत्कारित
(विपा १, ८—पत्र ८३) ।
महिडिढ वि [महिद्धि, °क] बडी ऋद्धि-
महिडिड्य } वाला, महान् वैभववाला (आ
महिडिडीय } २७, अग, ओषभा ६, श्रीप,
पि ७३) ।
महिम पुत्री [महिमन्] १ महत्त्व, माहात्म्य,
गौरव (हे १, ३५, कुमा, गउड, अवि) । २
योगी का एक प्रकार का ऐश्वर्य (हे १, ३५) ।
महिआ देखो मिहिला (महा, राज) ।
महिआ बी [महिला] बी, नारी (कुमा-
हे ३, ४१, पाअ) । °धूम पु [°स्तूप] कूप
आदि का किनारा (विसे २०६४) ।
महिलिया बी [महिलिहा, महिला] ऊपर
देखो (गाया-१, २, पउम १४, १४५,
प्रासू २४) ।
महिलिया बी [मिथिलिका, मिथिला]
देखो मिहिला (कप) ।
महिस पुं [महिष] भैंसा (गउड, श्रीप,
गा ५४८) । °सुर पुं [°सुर] एक
दानव (स ४३७) ।
महिसद पु [दे] बृक्ष-विशेष, शिशु का पेड
(दे ६, १२०) ।
महिसिअ वि [महिपिक] भैंसवाला, भैंस
चरानेवाला (अणु १४४) ।
महिसिअ न [दे] महिषी-समूह (दे ६,
१२४) ।
महिशी बी [महिषी] १ राज-पत्नी (ठा ४,
१) । २ भैंस (पाअ, पउम, २६, ४१) ।

°वेवेज्जय न [°वेवेयक] देवलोक-विशेष (इक) । °ट्टिअ वि [°स्थित] तटस्थ, मध्यस्थ (रयण ४८) । °ण्ण, °ण्ह पुं [°ाह] दिन का मध्य भाग, दोपहर (प्रात्र, प्राक्क १८, कुमा, अग्नि ५५, हे २, ८४, महा) । २ न, तप विशेष, पूर्वार्ध तप (सबोध ५८) । °ण्हतरु पुं [°ाहतरु] वृक्ष-विशेष, मध्याह्न समय में अत्यन्त फूलनेवाले लाल रंग के फूलवाला वृक्ष (कुमा) । °त्थ वि [°स्थ] तटस्थ (उव, उप ६४८ टी, सुर १६, ६५) । २ बीच में रहा हुआ (सुपा २५७) । °देस देखो °एस (सुर ३, १६) । °अ देखो °ण्ण (हे २, ८४, सण) । °म वि [°म] मध्य का, मफला, बीच का (भग, नाट—विक्र ५) । °रत्त पुं [°रात्र] निशीथ (उप १३६, ७२८ टी) । °रयणि ली [°रजनि] मध्य रात्रि (स ६३६) । °लोग पुं [°लोक] मेरु पर्वत (राज) । °वात्ते वि [°वत्तिन्] अन्तर्गत (मोह ६४) । °वत्तिअ वि [°वत्ति] १ बीच में मुड़ा हुआ । २ चित्त में कुटिल (वज्जा १२) ।

मज्झम पु [°दे] नापित, नाई, हजाम (दे ६, ११५) ।

मज्झमआर न [°दे] मफार, मध्य, अन्तराल (दे ६, १२१, विक्र २८, उव, गा ३, विसे २६६१, सुर १, ४५, सुपा ४६, १०३, खा १), 'असोगवणिआइ मज्झमारम्मि' (भाव ७) ।

मज्झमत्तिअ न [°दे] मध्यन्दिन, मध्याह्न (दे ६, १२४) ।

मज्झमदिण न [मध्यन्दिन] मध्याह्न (दे ६, १२४) ।

मज्झमज्झ न [मध्यमध्य] ठीक बीच (भग, विपा १, १, सुर १, २४४) ।

मज्झमगार देखो मज्झमआर (राज) ।

मज्झमण्हिय वि [माध्याह्निक] मध्याह्न-सबन्धी (धम्मवि १०५) ।

मज्झमथ न [माध्यस्थ] तटस्थता, मध्यस्थता (उप ६१५, सबोध ४५) ।

मज्झम वि [मध्यम] १ मध्य-वर्ती बीच का (हे १, ४८, सम ४३, उवा, कप्प, औप, कुमा) । २ पुं स्वर-विशेष (ठा ७—पत्र ३६३) । १ रत्त पुं [°रात्र] निशीथ, मध्य-रात्रि (उप ७२८ टी) ।

मज्झमगड न [°दे] उदर, पेट (दे ६, १२५) । मज्झमा ली [मध्यमा] १ बीच की उंगली (शोध ३६०) । २ एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

मज्झमिल्ल वि [मध्यम] मध्य-वर्ती, बीच का (अणु) ।

मज्झमिल्ला देखो मज्झमा (कप्प) ।

मज्झमल्ल वि [माध्यम, मध्यम] मफला, बीच का (पव ३६, देवेन्द्र २३८) ।

मट्ट वि [°दे] मृत्त रहित (दे ६, ११२) ।

मट्टिआ ली [मृत्तिका] मट्टी, मिट्टी, माटी (णाय १, १, औप, कुमा, महा) ।

मट्टी ली [मृत्, मृत्तिका] ऊपर देखो (जी ४, पडि, दे) ।

मट्टुहिअ न [°दे] १ परिणीत ली का कोप । २ वि. क्लृष । ३ अशुचि, मैला (दे ६, १४६) ।

मट्टु वि [°दे] अलस, आलसी, मन्द, जड़ (दे ६, ११२, पाय) ।

मट्टु वि [मृष्ट] १ माजित, शुद्ध (सूअ १, ६, १२, औप) । २ मखण, चिकना (सम १३७, दे ८, ७) । ३ घिसा हुआ (औप, हे २, १७४) । ४ न मिरच, मरिच (हे १, १२८) ।

मड वि [°दे मृत] १ मरा हुआ, निर्जीव (दे ६, १४१), 'मडोव्व अप्पाण' (वज्जा १४८), 'मडे' (मा) (प्राक्क १०३) । १ इ वि [°दिन्] निर्जीव वस्तु को खानेवाला (भग) । १ सय पुं [°अय] शमथान (निच ३) ।

मड पु [°दे] कंठ, गला (दे ६, १४१) ।

मडव पुन [°दे मडम्ब] ग्राम-विशेष, जिसके चारों ओर एक योजन तक कोई गाँव न हो ऐसा गाँव (णाय १, १, भग, कप्प, औप, परह १, ३, भवि) ।

मडक पुं [°दे] १ गर्व, अभिमान, 'न किञ्च वयणु सचलिय मडकइ' (भवि) । २ मटका, कलश, घडा; मराठी में 'मडकें' (भवि) ।

मडकिया ली [°दे] छोटा मटका, कलशो (कुभ ११६) ।

मडप्प पु [°दे] गर्व, अभिमान, अहंकार, मडप्पर } 'अज्जवि कंदप्पमडप्पसउणे वहइ मडप्पर } पडिच्च' (सुपा २६, कुप्र २२१, २८४, षड्, दे ६, १२०, पाय, सुपा ६, प्रासु ८५, कुप्र २५५, सम्मत १८६, घम्म ८ टी, भवि, सण) ।

मडभ वि [मडभ] कुञ्ज, वामन (राज) । मडमड } अक [मडमडाय्] १ मड मडमडमड } मड आवाज करता । २ सक, मड मड आवाज हो उस तरह मारना । मडमडमडति (पउम २६, ५३) । भवि, मडमडइश, मडमडाइश (मा), (पि ५२८, चाण ३५) ।

मडमडाइअ वि [मडमडायित] 'मड' 'मड' आवाज हो उस तरह मारा हुआ (उत्तर १०३) ।

मडय न [मृतक] मुडदा, मुर्दा, शव (पाय, हे १, २०६, सुपा २१६) । °गिह न [°गृह] कन्न (निच ३) । °चेइअ न [°चैत्य] मृतक के दाह होने पर या गाड़ने पर बनाया गया चैत्य—स्मारक मन्दिर (आचा २, १०, १६) । °डाह पु [°दाह] चिता, जहाँ पर शव फूँके जाते हो (आचा २, १०, १६) । °शुभिया ली [°स्तूपिका] मृतक के स्थान पर बनाया गया छोटा स्तूप (आचा २, १०, १६) ।

मडय पु [°दे] आराम, वगीचा (दे ६, ११५) । मडवोउम्मा ली [°दे] शिविका, पालकी (दे ६, १२२) ।

मडह वि [°दे] १ लघु, छोटा (दे ६, ११७, पाय, सण) । २ स्वल्प, थोडा (गा १०५, स ८, गउड, वज्जा ४२) ।

मडहर पु [°दे] गर्व, अभिमान (दे ६, १२०) । मडहिय वि [°दे] अल्पोक्त, न्यून किया हुआ (गउड) ।

मडहुल्ल वि [°दे] लघु, छोटा, 'मडहुल्लियाए कि तुह इमीए कि वा दलोहि तल्लिणी' (वज्जा ४८) ।

मडिआ ली [°दे] समाहृत ली, आहृत महिला (दे ६, ११४) ।

मडुवइअ वि [°दे] १ हल, विध्वस्त । २ तीक्ष्ण (दे ६, १४६) ।

मडु सक [मृदु] मदन करना । मडुइ (हे ४, १२६, प्राक्क ६८) ।

महेसि देखो मह-रिसि (सम १२३, पएह १, १, उप ३५७, ७२८ टी, अमि ११८) ।

महोअर पु [महोअर] १ रावण का एक भाई (से १२, ५४) । २ वि बहु-भक्षी (निचू १) ।

महोअहि पु [महोअधि] महासागर (से ५, २, महा) । रव पु [रव] वानर-वश का एक राजा (पउम ६, ६३) ।

महोच्छव देखो महूसव (सुर ६, ११०) ।

महोदधि देखो महोअहि (पएह २, ४, उप ७२८ टी) ।

महोरग पु [महोरग] १ व्यन्तर देवो की एक जाति (पएह १, ४—पत्र ६८, इक) । २ बडा सांप । ३ महा-काय सर्प की एक जाति (पएह १, १—पत्र ८) । स्थ न [रु] अन्न-विशेष (महा) ।

महोरगकठ पु [महोरगरुण्ठ] रत्न-विशेष (राय ६७) ।

महोसव देखो महूसव (नाट—रत्ना २४) ।

महोसहि स्त्री [महोपधि] श्रेष्ठ श्रौषधि (गउड) ।

मा अ [मा] मत, नही (चेइय ६८४, प्राप् २१) ।

मा स्त्री [मा] १ लक्ष्मी, दौलत (से ३, १५, सुर १६, ५२) । २ शोभा (से ३, १५) ।

मा } अक [मा] १ समाना, अटना । २ माअ } सक. माप करना । ३ निश्चय करना, जानना । माइ, माअइ, माइजा, माएजा (पव ४०, कुमा, प्राक् ६६, संवेग १८, श्रौप) । वकू मत, माअत (कुमा, ४, ३०, से २, ६, गा २७८) । कवकू मिज्जत, मिज्जमाण (से ७, ६६, सम ७६, जीवस १४४) । कू. माअव्य. 'वाया सहस्स-मइया', माइअ (से ६, ३, महा, कप्प) । देखो मेअ = मेय । माअडि पु [माअलि] इन्द्र का सारथि (से १५, ५१) ।

माअरा देखो माइ = मातृ (कुमा, हे ३, ४६) ।

माअलि देखो माअडि (से १५, ४६) ।

माअलिआ स्त्री [दे] मातृष्वसा, माता की वहन (दे ६, १३१) ।

माअही स्त्री [मागधी] काव्य की एक रीति (कप्प) । देखो मागहिआ ।

माआरा } स्त्री [मातृ] १ माँ, जननी (षड्, माइ } ठा ४, ३, कुमा, सुपा ३७७) ।

२ देवता, देवी (हे १, १३५, ३, ४६, सुख ३, ६) । ३ स्त्री, नारी । ४ माया (पंचा १७, ४८) । ५ भूमि । ६ विभूति । ७ लक्ष्मी । ८ रेवती । ९ आलुकरणी । १० जटामातो । ११ इन्द्र-वारुणी, इन्द्रायण (षड्, हे १, १३५, ३, ४६) । घर न [गृह] देवी-मन्दिर (सुख ३, ६) । ट्ठाण, ठाण न [स्थान] १ माया-स्थान (पचा १७, ४८, सम ३६) । २ माया, कपट-दोष (पचा १७, ४८, उवर ८४) । मेह पु [मेध] यज्ञ-विशेष, जिसमे माता का वध किया जाय वह यज्ञ (पउम ११, ४२) । हर देखो घर (हे १, १३५) । देखो माउ, माया = मातृ ।

माइ वि [मायिन्] माया-युक्त, मायावी (भग, कम्म ४, ४०) ।

माइ अ [मा] मत, नही (प्राक् ७८) ।

माइ } वि [दे] १ रोमश, रोमवाला, प्रभूत माइअ } बालो से युक्त (दे ६, १२८, णाया १, १८—पत्र २३७) । २ मयूरित, पुष्प-विशेषवाला (श्रौप, भग, णाया १, १ टी—पत्र ५, अत) ।

माइअ वि [मात] समया हुआ, अटा हुआ (सुख ६, १) ।

माइअ वि [मायिक] मायावी (दे ६, १४७, णाया १, १४) ।

माइअ वि [मात्रिक] मात्रा-युक्त, परिमित (तटु २०, पन्ह १, ४ पत्र ६८) ।

माइअ देखो मा = मा ।

माइ देखो माइ = मा (हे २, १६१, कुमा) ।

माइगण न [दे] वृत्ताक, अटा (उप ५६३) ।

माइद् [दे] देखो मायंद (प्राप्र, स ४१६) ।

माइद् पु [मृगेन्द्र] सिंह, केसरी, 'एकसर-पहरदारियमाइद्गइदुजुअमाभिडि' (वजा ४२) ।

माइद्जाल } न [मायेन्द्रजाल] माया-कर्म, माइदयाल } बनावटी प्रपच (सुर २, २२६, स ६६०) ।

माइद्दा स्त्री [दे] आमलकी, आमला का गाड़ (दे ६, १२६) ।

माइण्हिआ स्त्री [मृगवृष्णिका] घूप में जल की भ्रान्ति (उप २२० टी, मोह २३) ।

माइलि वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२६) ।

माइल्ल देखो माइ = मायिन् (सुअ १, ४, १-१८, आचा, भग, श्रौष ४१३, पउम ३१, ५१, श्रौप, ठा ४, ४) ।

माइवाह } पुं स्त्री [दे मातृवाह] द्वीन्द्रिय माइवाह } जन्तु-विशेष, क्षुद्र कीट-विशेष (उत्त ३६, १२६, जी १५, पुष्क २६५) । स्त्री. हा (सुख १८, ३५, जी १५) ।

माउ देखो माइ = मातृ (भग, सुर १, १७६, श्रौप, प्रामा कुमा, षड्, हे १, १३४; १३५) । गगाम पु [ग्राम] स्त्री-वर्ग (बृह १) । च्छा देखो सिआ (हे २, १४२; गा ६४८) । पिउ पुं [पितृ] माँ-बाप (सुर १, १७६) । म्मही स्त्री [मही] माँ की माँ, नानी (रंभा २०) । सिआ, सी, स्सिआ स्त्री [ष्वत्] माँ की वहन, मौसी (हे २, १४२, कुमा, विपा १, ३, सुर ११, २१६, पि १४८, विपा १, ३—पत्र ४१) ।

माउ } वि [मातृ, क] १ प्रमाता, माउअ } प्रमाण-कर्ता, सत्य ज्ञानवाला । २ परिमाण-कर्ता, नापनेवाला । ३ पु. जीव । ४ आकाश, 'माऊ', 'माउओ' (षड्, हे १, १३१, प्राप्र, प्राक् ८, हे १, १३४) ।

माउअ वि [मातृक] माता-संबन्धी (हे १, १३१, प्राप्र, प्राक् ८, राज) ।

माउअ पुंन [मातृक, का] १ अकार आदि छयालीस अक्षर, 'बभीए ण लिवीए छयालीसं माउयक्खरा' (सम ६६, आव ५) । २ स्वर । ३ करण (हे १, १३१, प्राप्र, प्राक् ८) । नीचे देखो ।

माउआ स्त्री [मातृका] १ माता, माँ (णाया १, ६—पत्र १५८) । २ ऊपर देखो (सम ६६) । पय पुन [पद्] शास्त्रो के सार-भूत शब्द—उत्पाद, व्यय और श्रौव्य (सम ६६) ।

माउआ स्त्री [दे. मातृका] दुर्गा, पार्वती, उमा (दे ६, १४७) ।

माउआ स्त्री [दे] १ सखी, सहेली (दे ६, १४७, पाप्र, णाया १, ६—पत्र १५८) । २ ऊपर के होठ पर के बाल, मूँड, रत्तगंड-

विशेष (विपा २, ६) । °चूड पुं [°चूड] एक विद्या-धर नृप (महा) । °जाल न [°जाल] भूषण-विशेष, मणि-माला (श्रीप) । °तोरण न [°तोरण] नगर-विशेष (महा) । °प देखो व (से ६, ४३) । °पैठिया स्त्री [°पीठिका] मणि-मय पीठिका (महा) । °पम पु [°प्रम] एक विद्याधर (महा) । °भद्र पुं [°भद्र] एक जैन मुनि (कम्प) । °भूमि स्त्री [°भूमि] मणि खचित जमीन (स्वप्न ५४) । °मइय, °मय वि [°मय] मणि-मय, रत्न निवृत्त (सुपा ६२, महा) । °रह पु [°रथ] एक राजा का नाम (महा) । °व पु [°व] १ यक्ष । २ सर्प, नाग (से २, २३) । ३ समुद्र (से ६, ५०) । °वई स्त्री [°मती] नगरी-विशेष (विपा २, ६—पत्र ११४ टि) । °बंध पु [°बन्ध] हाथ और प्रकोष्ठ के बीच का अवयव (सण) । °वाल्य पुं [°पालक, °वालक] समुद्र (से २, २३) । °सलागा स्त्री [°शलाका] मद्य-विशेष (राज) । °हियय पुं [°हृदय] देव-विशेष (दीव) ।

मणिअ न [मणित] सभोग-समय का स्त्री का अव्यक्त शब्द (गा ३६२, २भा) ।

मणिअ देखो मणय (षड्, हे २, १६६, कुमा) ।

मणिअड (अप) पु [मणि] माला का सुमेर (हे ४, ४१४) ।

मणिच्छिअ वि [मनईप्सित] मनोऽभीष्ट (सुपा ३०४) ।

मणिज्जमाण देखो मण = मन् ।

मणिट्ट वि [मनइष्ट] मन को प्रिय (भवि) ।

मणिणायहर न [दे. मणिनागगृह] समुद्र, सागर (दे ६, १२८) ।

मणिरइआ स्त्री [दे] कटीसूत्र (दे ६, १२६) ।

मणीसा स्त्री [मनीषा] बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा (पात्र) ।

मणीसि वि [मनीपिन्] बुद्धिमान्, परिष्ठत (कम्प) ।

मणीसिद वि [मनीपित] वाञ्छित (नाट—मृच्छ ५७) ।

मणु पु [मनु] १ स्मृति-कर्ता मूनि-विशेष (विसे १५०८, उप १५० टी) । २ प्रजापति-

विशेष, 'चोहहमणुचोग्गुणओ' (कुमा, राज) । ३ मनुज, मनुष्य, 'देवताओ मणुत्त' (पञ्च २१, ६३, कम्म १, १६, २ १६) । ४ न. एक देव-विमान (सम २) ।

मणुअ पु [मनुज] १ मनुष्य, मानव (उवा, भग, हे १, ८, पात्र, कुमा, स ८२, प्रासू ४५) । २ भगवान् श्रेयासनाथ का शासन-यक्ष (सति ७) । ३ वि मनुष्य-सम्बन्धी, 'गिरिया मणुया य दिव्वगा उवसग्गा तिचिहाहिया-सिया' (सुत्र १, २, २, १५) ।

मणुइद पुं [मनुजेन्द्र] राजा, नरपति (पञ्च ८५, २२, सुर १, ३२) ।

मणुई स्त्री [मनुजी] मनुष्य-स्त्री, नारी, महिला (एदि १२६ टी) ।

मणुएसर पु [मनुजेश्वर] ऊपर देखो (सुपा २०४) ।

मणुज्ज वि [मनोज्ञ] सुन्दर, मनोहर
मणुण्ण } (पात्र, उप १४२ टी, सम १४६, भग) ।

मणुस } पुष्ठी [मनुष्य] १ मानव, मर्त्य
मणुस्स } (आचा, पि ३००, आचा, ठा ४, २, भग, आ २८, सुपा २०३, जी १६, प्रासू २८) । स्त्री °स्ती (भग, पण १८, पत्र २४१) । °खेत्त न [°क्षेत्र] मनुष्य-लोक (जीव ३) । °सेणियापरिकम्म पु [°श्रेणिकापरिकम्म] दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम १२८) ।

मणुस्स वि [मानुष्य] मनुष्य-सम्बन्धी, 'दिव्व व मणुस्स वा तेरिच्छ वा सरागहियाएण' (आप २१) ।

मणुस्सिद पु [मनुष्येन्द्र] राजा, नर-पति (उत्त १८, ३७, उप पु १४२) ।

मणुस देखो मणुस्स (हे १, ४३, श्रीप, उवर १२२, पि ६३) ।

मणे अ [मन्ये] विमर्श सूचक अव्यय (हे २, २०७, षड्, प्राक् २६, गा १११, कुमा) ।

मणो देखो मण = मनस् । °गम न [°गम] देवविमान-विशेष, 'पालगपुष्फगसोमणुससिरि-वच्छनदियावत्तकामगमपीतिगममणोमविमल-सम्बओभइसरिसनामवेज्जेहि विमाणेहि ओ-इएणा' (अप) । °ज वि [°ज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर (हे २, ८३, उप २६४ टी) । २

पुं गुल्म-विशेष, 'सरियाए योमालियकीरिटय-वत्थुजीवगमणोज्जे' (पण १—पत्र ३२) ।

°ण्ण, °ज वि [°ज्ञ] सुन्दर, मनोहर (हे २, ८३, पि २७६) । °भव पुं [°भव] कामदेव, कन्दर्प (सुपा ६८, पिग) । °भिरमणिज्ज वि [°भिरमणीय] सुन्दर, चित्ताकर्षक (पञ्च ८, १४३) । °भू पु [°भू] कामदेव, कन्दर्प (कम्प) । °मय वि [°मय] मानसिक, 'सारोरेमणोमयाणि दुक्खाणि' (पण १, ३—

पत्र ५५) । °माणसिय वि [°मानसिक] मन मे ही रहनेवाला—वचन से अप्रकटित—मानसिक दुःख आदि (एया १, १—पत्र २६) ।

°रम वि [°रम] १ सुन्दर, रमणीय (पात्र) । २ पुं एक विमानेन्द्रक, देवविमान विशेष (देवेन्द्र १३६) । ३ मेरु पर्वत (सुज्ज ५) ।

४ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लका-पति (पञ्च ५, २६५) । ५ किन्नर-देवों की एक जाति । स्वक द्वीप का अधिष्ठातक देव (राज) । ७ तृतीय श्रेयस्क-विमान (पव १६४) । ८ आठवें देवलोक के इन्द्र का पारिधानिक विमान (इक) । ९ एक देव-विमान (सम १७) । १० मिथिला का एक चैत्य (उत्त ६, ८, ९) । ११ उपवन-विशेष (उप ६८६ टी) । °रमा स्त्री [°रमा] चतुर्थ वासु-

देव की पटरानी का नाम (पञ्च २०, १८६) । २ भगवान् सुपारवनाथ की दीक्षा-शिविका (सुपा ७५, विचार १२६) । ३ शक्त की अञ्जुका नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । °रह पु [°रथ] १ मन का अभिलाष (श्रीप, कुमा, हे ४, ४१४) । २ पत्त का तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४—पत्र १४७) । °हस पुं [°हस] छन्द-विशेष (पिग) । °हर पु [°हर] १ पक्ष का तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४) । २ छन्द-विशेष (पिग) । ३ वि. रमणीय, सुन्दर (हे १, १५६, षड्, स्वप्न ५२, कुमा) । °हरा स्त्री [°हरा] भगवान् पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । °हव देखो °भव (स ८१, कम्प) । °हिराम वि [°भिराम] सुन्दर (भवि) ।

मणोसिया देखो मणोसिया (हे १, २६, कुमा) ।

मण्य देखो मण = मन् । मणइ (पि ४८८) ।

मन का (सुर ४, ७५) । ४ पु. भूतानन्द के गन्धर्व-सैन्य का नायक (इक) ।

माणसिअ वि [मानसिक] मन-सबन्धी, मन का (श्रा २४, औप) ।

माणसिआ स्त्री [मानसिका] एक विद्या-देवी (सति ६) ।

माणि वि [मानिन्] १ मान-युक्त, मानवाला (उव, कुप्र २७६, कम्म ४, ४०) । स्त्री ०णिणी (कुमा) । २ पुं. रावण का एक सुभट (पउम ५६ २) । ३ पर्वत-विशेष । ४ कूट-विशेष (राज, इक) ।

माणिअ वि [दे मानित] श्रुभूत (दे ६, १३०, पात्र) ।

माणिअ वि [मानित] सक्कत (गडड) ।

माणिक न [माणिक्य] रत्न विशेष, माणिक (सुपा २१७, वजा २०, कप्प) ।

माणिण देखो माणि (पउम ७३, २७) ।

माणिभद् पु [माणिभद्र] १ यक्ष निकाय के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५, इक) । २ यक्षदेवी की एक जाति (सिदि ६६६, इक) । ३ देव-विशेष । ४ शिखर-विशेष (राज, इक) । ५ एक देव-विमान (राज) ।

माणिम देखो माण = मानय् ।

माणो स्त्री [मानिका] २५६ पलो का एक माप (अणु १५२) ।

माणुस पुन [माणुप] १ मनुष्य, मानव, मर्त्य (सूत्र १, ११, ३, पएह १, १, उव, सुर ३, ५६, प्राप्र, कुमा), 'ज पुण हिययाएद जयेइ त माणुस विरल' (कुप्र ६), 'मयाणि माइपिइपमुहमाणुसाणि सब्वाणि' (कुप्र २६) । २ वि मनुष्य सबन्धी, 'तिविह क्हावत्थु ति पुग्गारियिपवाओ, त जहा, दिव्व दिव्वमाणुस माणुस च' (स २) ।

माणुसी स्त्री [माणुपी] १ स्त्री-मनुष्य, मानवी (पव २४१, कुप्र १६०) । २ मनुष्य से सबन्ध रखनेवाली, 'माणुसी भासा' (कुप्र ६७) ।

माणुसुत्तर } पु [माणुपोत्तर] १ पर्वत-माणुसोत्तर } विशेष, मनुष्यलोक का सीमा-कारक पर्वत (राज, ठा ३, ४, जीव ३) । २ न. एक देव-विमान (सम २) ।

माणुस्स देखो माणुस (आचा, औप, धर्मवि १३, उपप २, विसे ३००७), 'माणुस्स लोण' (ठा ३, ३—पत्र १४२), 'माणुस्सगाईं भोगभोगाइ' (कप्प) ।

माणुस्स } न [मानुष्य, ०क] मनुष्यत्व, माणुस्सय } मानुसपन, मनुष्यता (सुपा १६६, स १३१ प्रासू ४७, पउम ३१, ८१) ।

माणुस्सी देखो माणुसी (पव २४०) ।

माणूस देखो माणुस (सुर २, १७२, ठा ३, ३—पत्र १४२) ।

माणेसर पु [माणेश्वर] माणेश्वर यक्ष (भवि) ।

माणोरामा (अप) स्त्री [मनोरमा] छन्द-विशेष (पिंग) ।

मातग देखो मायग (औप) ।

मातजण देखो मायजण (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

मातुल्लिग देखो माहुल्लिग (आचा २, १, ८, १) ।

मादलिआ स्त्री [दे] माता, जननी (दे ६, १३१) ।

माहु देखो माउ = स्त्री (प्राक्र ८) ।

माधवी देखो माहवी = माधवी (हास्य १३३) ।

माभाइ पुब्बी [दे] अमय-प्रदान, अमय-दान, अमय (दे ६, १२६, षड्) ।

माभीसिअ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, १२६) ।

माम अ. कोमल आमन्त्रण का सूचक अव्यय (पउम ३८, ३६) ।

माम } पु [दे] मामा, माँ का भाई (सुपा मामग } १६, १६५) ।

मामग } वि [मामक] १ मदीय, मेरा मामय } (आचा, अण्ड ७३) । २ ममतावाला (सूत्र १, २, २, २८) ।

मामय देखो मामग = (दे) (पउम ६८, ५५, स ७३१) ।

मामा स्त्री [दे] मामी, मामा की बहू (दे ६, ११२) ।

मामाय वि [मामाक] 'मा' 'मा' बोलनेवाला, निवारक (श्रीध ४३५) ।

मामास पु [मामाप] १ अनार्य देश-विशेष । २ अनार्य देश में रहनेवाली मनुष्य जाति (इक) ।

मामि अ. सखी के आमन्त्रण में प्रयुक्त किया जाता अव्यय (हे २, १६५, कुमा) ।

मामिया } स्त्री [दे] मामा की बहू (विपा मामी } १, ३—पत्र ४१, दे ६, ११२, गा २०४, प्राक्र ३८) ।

माय वि [मात] समाया हुआ (कम्म ५, ८५ टी, पुष्क १७२, महा) ।

माय वि [मायावत्] कपटवाला, 'कोहाए माणाए मायाए लोभाए' (पडि) ।

माय देखो मेत्त = मात्र, 'लोमुक्कणणमायमवि' (सूत्र २, १, ४८) ।

माय^० देखो माया = माया (आचा) ।

माय^० देखो मत्ता = मात्रा । ०त्र वि [०ज्ञ] परिमाण का जानकार (सूत्र २, १, ५७) ।

मायइ स्त्री [दे] वृक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६) ।

मायग पु [मातङ्ग] १ भगवान् सुपाश्वर्नाथ का शासनयक्ष । २ भगवान् महावीर का शासन-यक्ष (सति ७, ८) । ३ हस्ती, हाथी (पात्र, सुर १, ११) । ४ चाण्डाल, डोम (पात्र) ।

मायगी स्त्री [मातङ्गी] १ चाण्डालिन (निहू १) । २ विद्या-विशेष (आचू १) ।

मायजण पु [मातजण] पर्वत-विशेष (इक) ।

मायड पुं [मार्तण्ड] सूर्य, रवि (सुपा २४२, कुप्र ८७) ।

मायद् पु [दे माकन्द] आत्र, आम का पेड (हे २, १७४, प्राप्र, दे ६, १२८, कुप्र ७१, १०६) ।

मार्यदिअ देखो मागदिअ (भग १८, १) ।

मायदी स्त्री [माकन्दी] नगरी-विशेष (स ६, कुप्र १०६) ।

मायदी स्त्री [दे] श्वेताम्बर साध्वी (दे ६, १२६) ।

मायण्हिया स्त्री [मृगशृणिका] किरण में जल की भ्रान्ति, मरु-मरीचिका, 'जह मुद्धमओ मायण्हियाए

तिसिओ करेइ जल-बुद्धि ।

तह निव्विवेयपुरिसो

कुणइ अधम्मवि धम्ममइ

(सुपा ५००) ।

मन्त्र देखो माण = मान्य । कृ मन्त्र, मन्त्राय मन्त्रगिज्ञ, मन्त्रियव्व, मन्त्रिय (उप १०३६, धर्मवि ७६, भवि, सुर १०, ३८, सुपा ३६८, ठा १ टी—पत्र २१, सं ३५) ।

मन्त्रा स्त्री [मन्न] १ मति, बुद्धि (ठा १—पत्र १६) । २ आलोचन, चिन्तन (सूत्र २ १, ४१, ठा १) ।

मन्त्रा स्त्री [मान्या] अभ्युपगम, स्वीकार (ठा १—पत्र १६) ।

मन्त्राय देखो मन्त्र = मान्य ।

मन्त्राविय वि [मानित] मनाया हुआ (सुपा १५६) ।

मन्त्रिय वि [मत] माना हुआ (सुपा ६०५, कुमा) ।

मन्नु पुं [मन्यु] १ क्रोध, गुस्सा (सुपा ६०४) । २ दैन्य, वीनता, 'सोयसमुन्मयगख्य-मन्नुवसा' (सुर ११, १४४) । ३ अहंकार । ४ शोक, अफसोस । ५ क्रु, यज्ञ (हे २, २५, ४४) ।

मन्नुइय वि [मन्यवित] मन्यु-युक्त, कुपित (सुख ४, १) ।

मन्नुसिय वि [दे] उद्धिग्न (सं ५६६) ।

मन्ने देखो मण्णे (हे १, १७१, रंभा) ।

मप्प न [दे] माप, बाँट, 'तेण य सह वरु-णेण आणेवि य तत्स हट्टमप्पाणि' (सुपा ३६२) ।

मन्धीसडी ? (अप) स्त्री [मा भैपी] अमय-मन्धीसा } वचन (हे ४, ४२२) ।

ममकार पुं [ममकार] ममत्व, मोह, प्रेम, स्नेह (गच्छ २, ४२) ।

ममच्चय वि [मदीय] मेरा (सुख २, १५) ।

ममत्त न [ममत्व] ममता, मोह, स्नेह (सुपा २६) ।

ममया स्त्री [ममता] ऊपर देखो (पचा १५, ३२) ।

ममा सक [ममाय] ममता करना । ममाइ, ममायण (सूत्र २, १, ४२, उव) । वक्क-ममायमाण, ममायमीण (भाचा, सूत्र २, ६, २१) ।

ममाइ वि [मसत्विन्] ममतावाला (सूत्र १, १, ४) ।

ममाइय वि [ममायित] जिसपर ममता की गई हो वह (भाचा) ।

ममाय वि [दे] ग्रहण करना । ममायति (वस ६, ४६) ।

ममाय वि [ममाय] ममत्व करनेवाला (निच्च १३) ।

ममि वि [मामक] मेरा, मदीय, 'मम वा ममि वा' (सूत्र २, २, ६) ।

ममूर सक [चूर्णय] चूरना । ममूरइ (घात्वा १४८) ।

मम्म पुंन [मर्मन्] १ जीवन-स्थान । २ सन्धि-स्थान (गा ४४६, उप ६६१, हे १, ३२) । ३ मरण का कारण-भूत वचन आदि (एयाया १, ८) । ४ युद्ध बात (प्राप् ११, सुपा ३०७) । ५ रहस्य, तात्पर्य (ध्रु २८) । ६ य वि [ग] मर्म-वाचक (शब्द) (उत्त १, २५, सुख १, २५) ।

मम्मक पु [दे] गर्व, अहंकार (षड्) ।

मम्मका स्त्री [दे] १ उत्कण्ठा । २ गर्व (दे ६, १४३) ।

मम्मण न [मम्मन] १ अव्यक्त वचन (हे २, ६१, दे ६, १४१, विपा १, ७, वा २६) । २ वि. अव्यक्त वचन बोलनेवाला (श्रा १२) ।

मम्मण पुं [दे] १ मदन, कन्दर्प । २ रोष, गुस्सा (दे ६, १४१) ।

मम्मणिया स्त्री [दे] नील मक्षिका (दे ६, १२३) ।

मम्मर पु [मर्मर] शुष्क पत्तो की आवाज (गा ३६५) ।

मम्मह पुं [मम्मथ] कामदेव, कन्दर्प (गा ४३०, अमि ६५) ।

मम्मी स्त्री [दे] मानी; मातुल-पत्नी (दे ६, ११२) ।

मय न [मत] मनन, ज्ञान (सूत्र २, १, ५०) । २ अग्निप्राय, आशय (शोधनि १६०, सूत्रनि १२०) । ३ समय, दर्शन, धर्म, 'सममो मय' (पात्र, सम्मत २२८) । ४ वि. माना हुआ (कम्म ४, ४६) । ५ इष्ट, अभीष्ट (सुपा ३७१) । ६ न्नु वि [इ] दार्शनिक (सुपा ५८२) ।

मय पु [मय] १ उड़, ऊँट (सुख ६, १) । २ अक्षर, खबर, 'मयमहिसवरहकेसरि—'

(पउम ६, ५६) । ३ एक विद्याधर-नरेश (पउम ८, १) । ४ हर पु [धर] ऊँटवाला (सुख ६, १) ।

मय वि [मृत] मरा हुआ, जीव-रहित (एयाया १, १, उव, सुर २, १८, प्राप् १७, प्राप्र) । ५ किञ्च न [कृत्य] मरण के उपलक्ष्य में किया जाता आद्य आदि कर्म (विपा १, २) ।

मय पुन [मद] १ गर्व, अभिमान, 'एयाइ मयाइ विगिच्च धीरा' (सूत्र १, १३, १६, सम १३, उप ७२८ टी, कुमा, कम्म २, २६) । २ हाथी के गण्ड-स्थल से भरता प्रवाही पदार्थ (एयाया १, १—पत्र ६५, कुमा) । ३ आमोद, हर्ष । ४ कस्तूरी । ५ मत्ता, नशा । ६ नद, बड़ी नदी । ७ वीर्य, शुक्र (प्राप्र) । ८ करि पु [करिन्] मदवाला हाथी (महा) । ९ गल वि [कल] १ मद से उत्कट, नशे में चूर, 'मगगलकुजरमणो' (पिग) । २ पु हाथी (सुपा ६०, हे १, १८२, पात्र, दे ६, १२५) । ३ छन्द-विशेष (पिग) । ४ णासणी स्त्री [नाशनी] विद्या-विशेष (पउम ७, १४०) । ५ धम्म पु [धर्म] विद्याधर-वश के एक राजा का नाम (पउम ५, ४३) । ६ मज्जी स्त्री [मज्जी] एक स्त्री का नाम (महा) । ७ वारण पु [वारण] मदवाला हाथी; 'मयवारणो व मत्तो निवा-डियालाएवरखो' (महा) ।

मय पु [मृग] १ हरियण (कुमा, उप ७२८ टी) । २ पशु, जानवर । ३ हाथी की एक जाति । ४ नक्षत्र-विशेष । ५ कस्तूरी । ६ मकर राशि । ७ अन्वेषण । ८ याचन, मांग । ९ यज्ञ-विशेष (हे १, १२६) । १० च्छी स्त्री [क्षी] हरियण के नेत्रों के समान नेत्र-वाली (सुर ४, १६, सुपा ३५५, कुमा) । ११ णाह पु [नाथ] सिंह (सं १११) । १२ णाहि पु [नाभि] कस्तूरी (पात्र, सुपा २००, गजड) । १३ तण्हा स्त्री [तण्णा] धूप में बल-प्राप्ति (दे, से ६, ३५) । १४ तण्हा स्त्री [तण्णिका] वही अर्थ (पि ३७५) । १५ तण्हा देखो 'तण्हा (पि ५४) । १६ तिण्हा देखो 'तण्हा (पि ५४) । १७ धुत्त पु [धुत्त] शृगाल, सियार (दे ६, १२५) । १८ नाभि देखो 'णाहि (कुमा) । १९ राय पु [राज]

मालवत पु [माल्यवत्] १ पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६६, ८०, सम १०२)। २ एक रामकुमार (पत्र ६, २२०)। ३ परि-याग, परिथाय पु [पर्याय] पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०, ६६)।

मालविणी स्त्री [मालविनी] लिपि विशेष (विसे ४६४ टी)।

माला स्त्री [माला] १ फूल आदि का हार, 'मल्ल माला दाम' (पात्र, स्वप्न ७२, सुपा ३१६, प्रासू ३०, कुमा)। २ पक्ति, श्रेणी (पात्र)। ३ समूह, 'जलमालकदमाल' (सूत्रनि १६१)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। ५ इह वि [वत्] माला वाला (पात्र)। ६ कारि वि [कारिन्] माली, पुष्प व्यवसायी। स्त्री ०णी (सुपा ५१०)। ७ गार वि [कार] वही अर्थ (उप १४२, टी, अत १८, सुपा ५६२, उप ४ १५६)। ८ धर पु [धर] प्रतिमा के ऊपर के भाग की रचना-विशेष (चेद्वय ६३)। ९ धार, 'र देखो कार (अत १८, उप ४ १५७, गा ५६६)। स्त्री ०री (कुमा, गा ५६७)। १० हरा स्त्री [धरा] छन्द-विशेष (पिंग)।

माला स्त्री [दे] ज्योत्सना, चन्द्रिका (दे ६, १२८)।

मालाकुक्कुम न [दे] प्रधान कुक्कुम (दे ६, १३२)।

मालि पुत्री [मालि] वृक्ष-विशेष (सम १५२)।

मालि पु [मालिन्] १ पाताल-लका का एक राजा (पत्र ६, २२०)। २ देश-विशेष (इक)। ३ वि माली, पुष्प-व्यवसायी (कुमा)। ४ शोभनेवाला (कुमा)।

मालिअ पु [मालिअ] ऊपर देखो (दे २, ८, 'पह १, २, सुपा २७३, उप ४ १५७)।

मालिअ वि [मालिअ] शोभित, विभूषित, परलोए पुण कल्लाणमालिआमालिआ क्केएव' (सा २३, पात्र, उप २६४ टी)।

मालिआ स्त्री [मालिआ, माला] देखो माला = माला (सा २३, स्वप्न ५३, श्रौप, उवा)।

मालिज्ज न [मालीय] एक जैन मुनि-कुल (कम्प)।

मालिणी स्त्री [मालिनी] १ माली की स्त्री (कुमा)। २ शोभनेवाली (श्रौप)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)। ४ मालावाली (गउड)।

मालिण्ण } न [मालिण्य] मलिनता (उप
मालिन्न } पृ २२, सुपा ३५२, ५८६)।

मालुग } पुं [मालुक] १ श्रीन्द्रिय जन्तु-
मालुय } विशेष (सुख ३६, १३८)। २
वृक्ष-विशेष (पराण १—पत्र ३१, गाय्या १,
२—पत्र ७८)।

मालुया स्त्री [मालुका] १ बल्ली, लता (सूत्र
१, ३, २, १०)। २ बल्ली-विशेष (पराण
१—पत्र ३३)।

मालुहाणी स्त्री [मालुधानी] लता-विशेष
(गउड)।

मालूर पु [दे मालूर] कपित्थ, कैथ का
गाछ (दे ६, १३०)।

मालूर पु [मालूर] १ बिल्व वृक्ष, बेल का
गाछ (दे ३, १६, गा ५७६, गउड, कुमा)।
२ न बेल का फल (पात्र, गउड)।

माहव } पु [मातुल] मामा (पुष्पमाला
माव्ह } ३२ श्लो० न भवभावना)।

माविअ वि [मापित] मापा हुआ (से ६,
६०, दे ८, ४८)।

मास देखो मस = मास (हे १, २६, ७०,
कुमा, उप ७२८ टी)।

मास पु [मास] १ महिना, तीस दिन का
समय (ठा २, ४, उप ७६८ टी, जी ३५)।

२ समय, काल, 'कालमासे कालं किच्चा'
(विपा १, १, २, कुप्र ३५), 'पसवमासे'
(कुप्र ४०४)। ३ पर्व—चतसपति-विशेष,
'वीरणा- (? स्त्री) तह इक्के य मासे य'
(पराण १—पत्र ३३)। ४ उस देखो तुस
(राज)। ५ कटप पु [कटप] एक स्थान मे
महिना तक रहने का आचार (बृह ६)।

६ खमण न [क्षमण] लगातार एक मास
का उपवास (गाय्या १, १, विपा २, १,
भग)। ७ गुरु न [गुरु] तप-विशेष, एका-
शन तप (सबोध ५७)। ८ तुस पु [तुप]
एक जैन मुनि (विदे ५१)। ९ पुरी स्त्री
[पुरी] १ नगरी-विशेष, भृगो देश की
राजधानी (इक)। २ 'वर्त' देश की राजधानी,
'पावा भगी य, मासपुरी बट्टा' (पव २७५)।

०पुरिया स्त्री [पुरिका] एक जैन मुनि
(कम्प)। १ लहु न [लधु] तप-विशेष,
'पुरिमड्ड' तप (सबोध ५७)।

मास पुं [माप] १ अनायें देश-विशेष। २
देश विशेष मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (पह
१, १—पत्र १४)। ३ धान्य विशेष, उदद
(दे १, ६८)। ४ परिमाण विशेष, मासा
(वज्जा १३०)। ५ पण्गी स्त्री [पर्णी]
वनस्पति विशेष (पराण १—पत्र ३६)।

मासल देखो मसल (हे १, २६, कुमा)।

मासलिय वि [मासलित] पृष्ट किया हुआ
(गउड, सुपा ४७४)।

मासाहस पु [मासाहस] पक्षि-विशेष,
'मासाहसउणिसमो कि वा चिट्ठामि धवलिमी'
(सवे ६, उव, उर ३, ३)।

मासिअ पुं [दे] पिशुन, खल, दुर्जन (दे ६,
१२२)।

मासिअ वि [मासिक] मास-सम्बन्धी (उवा,
श्रौप)।

मासिआ स्त्री [मातृष्वत्] माँ की बहिन
(धर्मवि २२)।

मासु देखो मंसु = शमश्रु (हे २, ८६)।

मासुरी स्त्री [दे] शमश्रु, दाढी-मूँछ (दे ६,
१३०, पात्र)।

माह पुं [माघ] १ मास-विशेष, माघ का
महिना (पात्र, हे ४, ३५७)। २ सस्कृत
का एक प्रसिद्ध कवि। ३ एक सस्कृत काव्य-
ग्रथ, शिशुपाल वध काव्य (हे १, १८७)।

माह न [दे] कुन्द का फूल (दे ६, १२८)।

माहण पु स्त्री [माहन, ब्राह्मण] हिंसा से
निवृत्त, अहिंसक—१ मुनि, साधु, ऋषि।
२ श्रावक, जैन उपासक। ३ ब्राह्मण (आना,
सूत्र २, २, ४८, ५४, भग १, ७, २, ५,
प्रासू ८०, मडा)। स्त्री ०णी (कम्प)। ४ कुंड
न [कुण्ड] मगध देश का एक ग्राम
(आचू १)।

माहणप पुन [माहात्म्य] १ महत्त्व, गौरव।
२ महिमा, प्रभाव (हे १, ३३, गउड, कुमा,
सुर ३, ५३, प्रासू १७)।

माहणपया स्त्री, ऊपर देखो (उप ७६८ टी)।
माहय पु [दे] चतुरिन्द्रिय कीट-विशेष (उत
३६, १४६)।

मरमाण (गा ३७५, प्रासू ६४, सुपा ४०५, भग, सुपा ६५१, प्रासू ८३) । सक्र मरिऊण (पि ५८६) । हेक्र मरिउ, मरेउ (सक्ति ३४) । क. मरियव्व (अत २४, सुपा २१५, ५०१, प्रासू १०६), मरिएव्वउ (अप) (हे ४, ४३८) ।

मर पु [दे] १ मशक । २ उल्लू, घूक (दे ६, १४०) ।

मरअद पुन [मरऊत] नील वर्णवाला मरगाय रत्न-विशेष, पत्रा (सक्ति ६, हे १, १८२, औप, पड्, गा ७५, काप्र ३१), 'परिकम्मिओवि वहुसो काओ कि मरगओ होइ' (कुप्र ४०३) ।

मरजीवय पु [दे मरजीवक] समुद्र के भीतर उतर कर जो वस्तु निकालने का काम करता है वह (सिरि ३८५) ।

मरट्ट पुं [दे] गर्व, अहंकार (दे ६, १२०, सुर ४, १५४, प्रासू ८५, ती ३, भवि, सण, हे ४, ४२२, सिरि ६६२), 'आखिलमइ (१२)ह्कदपमइणे लद्धजयपडायस्स' (धर्मवि ६७) ।

मरट्टा वी [दे] उत्कर्ष,

'एईइ अहरहरिआखणिममरट्टाइ

(? इ) लज्जमाणाइ ।

विवफलाइ उव्वघण व

वल्लीसु विरयति ॥

(कुप्र २६६) ।

मरट्ट (अप) देखो मरहट्ट (पिग) ।

मरठ देखो मरहट्ट । वी ंढी (कप्पु) ।

मरण पुन [मरण] मौत, मृत्यु (आचा, भग, पाथ, वी ४३, प्रासू १०७, ११६), 'सिसा मरणा सव्वे तन्नवमरणेण णायव्वा' (पव १५७) ।

मरल सक मराल = मराल, हस (प्राक ५) ।

मरह सक [मृप्] क्षमा करना, 'खमंतु मरहंतु ण देवाणुप्पिया' (णाया १, ८—पत्र १३५) ।

मरहट्ट पुन [महाराष्ट्र] १ बडा देश । २ देश-विशेष, महाराष्ट्र, मराठा, 'मरहट्टो मरहट्ट' (हे १, ६६, प्राक ६, कुमा) । ३ सुराष्ट्र (कुमा ३, ६०) । ४ पु. महाराष्ट्र देश का

निवासी, मराठा (परह १, १—पत्र १४, पिग) । ५ छन्द-विशेष (पिग) ।

मरहट्टी वी [महाराष्ट्री] १ महाराष्ट्र की रहनेवाली वी । २ प्राकृत भाषा का एक भेद (पि ३५४) ।

मराल वि [दे] अलस, मन्द, आलसी (दे ६, ११२, पाथ) ।

मराल पु [मराल] १ हस पक्षी (पाथ) । २ छन्द-विशेष (पिग) ।

मराली वी [दे] १ सारसी, सारस पक्षी की मादा । २ दूती । ३ सखी (दे ६, १४२) ।

मरिअ वि [मृत्] मरा हुआ (सम्मत १३६) ।

मरिअ वि [दे] १ झुटित, टूटा हुआ । २ विस्तोर्ण (षड्) ।

मरिअ देखो मिरिअ (प्रयो १०५, भास ८ टी) ।

मरिइ देखो मरीइ, 'अह उप्पन्ने नाणे जिणस्स, मरिइ तओ य निकखतो' (पउम ८२, २४) ।

मरिस सक [मृप्] सहन करना, क्षमा करना । मरिसइ, मरिसेइ, मरिसेउ (हे ४, २३५, महा, स ६७०) । कृ मरिसियव्व (स ६७०) ।

मरिसावणा वी [मर्षणा] क्षमा (स ६७१) ।

मरीइ पु [मरीचि] १ भगवान् ऋषभदेव का एक पौत्र और भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो भगवान् महावीर का जीव था (पउम ११, ६४) । २ पुत्री. किरण (परह १, ४—पत्र ७२, धर्मस ७२३) ।

मरीइया वी [मरीचिका] १ किरण-समूह । २ मृग तृष्णा, किरण मे जल भ्रान्ति (राज) ।

मरीचि देखो मरीइ (औप, सुज १, ६) ।

मरीचिया देखो मरीइया (औप) ।

मरु पु [मरुत्] १ पवन, वायु । २ देव, देवता । ३ सुगन्धी वृक्ष-विशेष, मरुआ, मरुवा (पड्) । ४ हनुमान का पिता (पउम ५३, ७६) । ५ ंणदण पुं [०नन्दन] हनुमान् (पउम ५३, ७६) । ६ रसुय पु [०सुत] वही (पउम १०१, १) । देखो मरुअ = मरुत् ।

मरु पु [मरु, क] १ निर्जल देश मरुअ (णाया १, १६—पत्र २०२, औप) । २ देश-विशेष, मारवाड (ती ५, महा, इक, परह १, ४—पत्र ६८) । ३

पर्वत, ऊँचा पहाड (निव्व ११) । ४ कृत् विशेष, मरुआ, मरुवा (परह २, ५—पत्र १५०) । ५ ब्राह्मण, विप्र (सुव २, २७) । ६ एक नृप वंश । ७ मर वंशीय राजा, 'तस य पुट्टोए नदो परणपत्तसय च होइ वाताए । मरुयाएणं अट्टसय' (विचार ४६३) । ८ मर देश का निवासी (परह १, १) । कर्त्ता व [०कान्तार] निर्जल जगल (अनु ५) । 'स्थली वी [०स्थली] मरु भूमि (पहो) । 'भू वी [०भू] वही (शा २३) । १ ति [०ज] मरु देश में उत्पन्न (परह १, ५—पत्र ६८) ।

मरुअ देखो मरु = मरुत् (परह १, ५—पत्र ६८) । २ एक देव-जाति (ठा ३, १) । 'कुमार पु [कुमार] वानरूप के एक राजा का नाम (पउम ६, ६७) । 'वसभ पुं [०वृषभ] इन्द्र (परह १, ४—पत्र ६८) ।

मरुअअ पु [मरुवक] वृक्ष विशेष, मरु, मरुअग मरुवा (गउड, परण १—पत्र ३४) ।

मरुआ वी [मरुता] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत) ।

मरुइणी वी [मरुकिणी] ब्राह्मण वी, ब्रह्मणे (विसे ६२८) ।

मरुड देखो मुरुड (अत, औप, णाया १—पत्र ३७) ।

मरुकुद पु [दे मरुकुन्द] मरुआ, मरुदेव गाछ (भवि) ।

मरुग देखो मरुअ = मरुत् (परह १, ५—पत्र १४, इक) ।

मरुदेव पु [मरुदेव] १ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । २ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०, पत्र ३, ५५) ।

मरुदेवा वी [मरुदेवा, वी] १ भगवान् ऋषभदेव की माता का नाम (अत मरुदेवी) २ राजा श्रेणिक की एक पत्नी, जिसने भगवान् महावीर के पाप दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अत) ।

मरुदेवा वी [मरुदेवा] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाली राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) ।

१४०)। जी. °द्विया (पात्र)। २ न. पुरुष-
लिंग, पुरुष चिह्न (राज)। °गुह्य पुं [°गुह्य]
१ अनाथं देश विरोध (पत्र २७४)। २ न.
नगर-विरोध (राज)। देखो मेंढ।

मिच्छिय पुं [मेण्डिक] आम-विरोध (कर्म १)।

मिग देखो मय = गुण (विपा १, ७, सुर २,
२२७, गुणा ११८, ३४), 'सोहो मिगाए
सलिलाए गंगा' (सूत्र १, ६, २१)। °मध
पुं [°मध] गुणाजक मनुष्य की एक जाति
(एक)। °नाह पुं [°नाय] सिंह (सुपा
६३२)। °वह पुं [°पति] सिंह (परह १,
१, गुणा ६३६)। °वालुं ती जी [°वालुङ्की]
वनस्वति-विरोध (परह १७—पत्र ५३०)।

°रि पुं [°रि] सिंह (उप, सुर ६, २७०)।

°हिय पु [°धिप] सिंह (परह २, ५)।

मिगया जी [मृगया] शिकार (गुणा २१४,
कुप्र २३, माह ६२)।

मिगव्य न [मृगव्य] ऊपर देखो (उत्त
१८, १)।

मिगसिर देतो मगसिर (सग ८, एक, मि
४३६)।

मिगानई देखो मिआ-वई (पत्रम २०, १८४
२२, ५५, उप, अर, कुप्र १८३, पडि)।

मिगी जी [मृगी] १ हरिणी (महा)। २
विगा-विरोध (राज)। °पद न [°पद] जी
का मुख स्थान, योनि (राज)।

मिन्चु देखो मन्चु (पद्, कुमा)।

मिच्छ (अप) देखो झच्छ = झप, 'न उ देह
कणु मिच्छद न न वंउ' (भवि)।

मिच्छ पुं [म्लेच्छ] यवन, अनाथ मनुष्य
(पत्रम २७, १८, ३४, ४१, ती १५, सबोध
१६)। °पहु पु [°प्रमु] म्लेच्छो का राजा
(रभा)। °पय न [°प्रय] पलाएडु, व्याज,
पशुन, 'मिच्छपियग पु भुता जा गंधो ता न
हिउति' (शुक्र ५)। °हिय पुं [°धिप]
यवनो का राजा (पत्रम १२, १४)।

मिच्छ न [मिच्छ] १ असत्य बचन, झूठ।
२ वि असत्य, झूठा, 'मिच्छे ते एवमाहपु'
(भग), 'य ताता, नेव मिच्छ' (पत्रम २३,
२६)। ३ मिथ्यादृष्टि, सत्य पर विश्वास नहीं
रखनेवाला, तत्त्व का अथडापु, 'मिच्छो

हियाहियविभागनारासएणारामनिओ कोइ'
(विरो ५१९)।

मिच्छ° देखो मिन्छा (कम्म ३, २, ४)।

°कार पु [°कार] मिथ्या-करण (आयम)।

°त्त न [°त्त] सत्य तत्त्व पर अश्रद्धा,
सत्य धर्म का अविश्वास (ठा ३, ३,
प्रापू ६, भग, श्रौप, उप ५३१, कुमा)।

°त्ति वि [°त्तिन्] सत्य धर्म पर विश्वास
नहीं करनेवाला, परमार्थ का अश्रद्धालु (५
१८)। °द्विट्ठि, °द्विट्ठीय, °द्विट्ठि, °द्विट्ठिय
वि [°द्विट्ठि, °द्विट्ठि] सत्य धर्म पर श्रद्धा नहीं
रखनेवाला, जिन-धर्म से मित्र धर्म को मानने-
वाला (सग २६, कुमा, ठा २, २, श्रौप;
ठा १)।

मिच्छा भा [मिच्छा] १ असत्य, झूठा
(पात्र)। २ कर्म-विरोध, मिथ्यात्व-गोहनीय
कर्म (कम्म २, ४; १४)। ३ गुण-स्थानक
विरोध, प्रथम गुण स्थानक (कम्म २, २, ३,
१३)। °दंराण न [°दंराने] १ सत्य तत्त्व
पर अश्रद्धा (सग ८, भग, श्रौप)। २ असत्य
धर्म (कुमा)। °नाण न [°द्वान] असत्य
ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अज्ञान (भग)। °सुख
न [°श्रुत्] असत्य श्रावण, मिथ्यादृष्टि-प्रणीत
शास्त्र (एवि)।

मिज्ज भ्रक [मृ] मरना। मिज्जति (सूत्र १,
७, ९)। वक्र मिज्जमाण (भग)।

मिज्जत } देगो मा = मा।
मिज्जमाण }

मिज्ज वि [मिज्ज] शुचि, पवित्र (उप ७२८
टी)।

मिट राक [दे] मिटाना, लोप करना। मिटि-
ज्जु (पिग)। प्रयो. मिटावह (पिग)।

मिट्टि वि [मिट्टि, मृट्टि] भीटा, मधुर, 'पुहमिट्टा
मणपुट्टा वेता सिट्टाण कहुमिट्टा' (परमवि
६५, कणू, सुर १२, १७, हे १, १२८,
रभा)।

मिण सग [मा, मी] १ परिमाण करना,
नापना, तोलना। २ जानना, निश्चय करना।
मिणइ (विरो २१८६), मिणयु (पत्र २५४)।

मिणण न [मान] मान, माप, परिमाण (उप
पु ६७)।

मिणाय न दे बलात्कार, जबरदस्ती (दे ६,
११३)।

मिणाल देखो मुणाल (प्राकृ ८, रभा)।

मित्त पुं [मित्त] १ सूर्य, रवि (सुपा ६४५,
सुख ४, ६, पात्र, वजा १४४)। २ नक्षत्रधेय-
विरोध, अनुराधा नक्षत्र का अग्निष्ठाक धेय
(ठा २, ३—पत्र ७७, सुज १०, १२)। ३
अहोरात्र का तीसरा मुहूर्त (सग ५१, सुज
१०, १३)। ४ एक राजा का नाम (विपा
१, २)। ५ पुन. दोस्त, वयस्य राजा, 'मित्तो
सही वयसो' (पात्र), 'पहाएमित्ता' (स
७०७), 'तिविहो मित्तो ह्यय' (रा ७१५,
गुणा ६४५; प्रासू ७६)। °केरी जी [°केरी]
खक पर्यंत पर रहनेवाली एक विष्णुमारी
देवी, 'अल्लुसा मित्त (१त्त) केरी' (ठा ८—
पत्र ४३७; एक)। °गा जी [°गा] वेरोचन
बलीग्न की एक अश्र-नहिषी, एक धन्वाखी
(ठा ४, १—पत्र २०४)। °णदि पु
[°नन्दिन्] एक राजा का नाम (विपा २,
१०)। °दाम पुं [°दाम] एक कुलकर
पुरुष का नाम (सग १५०)। °देवा जी
[°देवा] अनुराधा नक्षत्र (राज)। °व
वि [°वत्] मित्रवाला (उत्त ३, १८)।

°सेण पुं [°सेन] एक पुराहिता पुत्र (सुपा
५०७)।

मित्त देखो मेत्त = मात्र (कण, जी ३१;
प्रासू १४५)।

मित्तल पुं [दे] कन्दर्प, काम (दे ६, १२६,
सुर १३, ११८)।

मिच्छि जी मति] १ मान, परिमाण। २
सापेक्षाता,
'उरसग्गवभायाए मित्तीए अह ए भायणो बुट्ट।
उरसग्गवभायाए मित्तीए त्थेव उधमरण'
(गणक ३७)।

मिच्छिजा जी [मृत्तिजा] मिट्टी, मट्टी (अभि
२४३)। °वई जी [°वती] यशार्थ देश की
प्राचीन राजधानी (विचार ४८)।

मिच्छिज्ज भ्रक [मिच्छिज्ज] मित्र का चाहना।
वक्र. मिच्छिज्जमाण (उत्त ११, ७)।

मिच्छिय न [मिच्छिय] १ मोघ-विरोध, जो वस्तु
मोघ की एक शाखा है। २ भुंजी, उस मोघ के
उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३१०)।

मल्ह अक [दे] मौज मानना, लीला करना ।
 वक्र. मल्हत् (दे ६, ११६ टी. भवि) ।
 मल्हण न [दे] लीला, मौज (दे ६, ११६) ।
 मव सक [मापय] मापना, माप करना,
 नापना । मवति (सिरि ४२५) । कर्म.
 'आजयाई मविज्जति' (कम्म ५, ८५ टी) ।
 कवक मविज्जमाण (विसे १४००) ।
 मविय वि [मापित] मापा हुआ (वेदु ३१) ।
 मञ्चली (मा) ली [मस्त्य] मछनी (पि
 २३३) ।
 मस } पुं [मश, क] १ शरीर पर का
 मसअ } तिलाकार काला दाग, तिल (पव
 २५७) । २ मच्छड, सुद्र जन्तु-विशेष (गा
 ५६०, चारु १०, वज्जा ४६) ।
 मसक्सार न [मसक्सार] इन्दी का एक
 स्वय आभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) ।
 मसग देखो मसअ (भग, औप, पउम ३३,
 १०८, जो १८) ।
 मसण वि [मसण] १ स्निग्ध, चिकना ।
 २ सुकुमाल, कोमल, अमकंश । ३ मन्द,
 धीमा (हे १, १३०, कुमा) ।
 मसरक सक [दे] सकुचना, समेटना । सक.
 'दसवि करगुलीउ मसरक्किवि (अप)
 (भवि) ।
 मसाण न [मशान] मसान, मरघट (गा
 ४०८, प्राप्र, कुमा) ।
 मसार पु [दे. मसार] मसणता-सपादक
 पाषाण-विशेष, कसीटी का पत्थर (गाथा १,
 १—पत्र ६, औप) ।
 मसारगल पुं [मसारगल] एक रत्न-जाति
 (गाथा १, १—पत्र ३१, कप्प, उत ३६,
 ७६, इक) ।
 मसि ली [मसि] १ काजल, कण्जल (कप्प) ।
 २ स्याही, मियाही (सुर २, ५) ।
 मसिंहार पुं [मसिंहार] क्षत्रिय-परिव्राजक
 विशेष (औप) ।
 मसिण देखो मसण (हे १, १३०, कुमा,
 औप, से १, ४५, ५, ६४) ।
 मसिण वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ६, ११८) ।
 मसिणिअ वि [मसिणित] १ मृष्ट, शुद्ध
 किया हुआ, भाजित; 'रोसिणिअ मसिणिअ'

(पाप्र) । २ स्निग्ध किया हुआ (से ६,
 ६) । ३ विलुलित, विमदित (से १, ५५) ।
 मसी देखो मसि (उवा) ।
 मसूर } पु न [मसूर, क] १ धान्य-विशेष,
 मसूरग } मसूरि (ठा ४, ३, सम १४६, पिठ
 मसूरय } ६२३) । २ उच्छोषक, छोसीसा
 (सुर २, ८३, कप्प) । ३ वज्र या चर्म का
 वृत्ताकार आसन (पव ८४) ।
 मसु देखो मसु (सक्ति १२, पि ३१२) ।
 मसूरग देखो मसूरग, 'मसूरग य विजुगे'
 (जीवस ५२) ।
 मह सक [काडक्षु] चाहना, वाञ्छना ।
 महइ (हे ४, १६२, कुमा, सण) ।
 मह सक [मथ्] १ मयना, विलोडन
 करना । २ मारना । महण्जा (उवा) ।
 मह सक [मह] पूजना । महइ (कुमा),
 महइ (सिरि ५६६) । सक महिअ (कुमा) ।
 क महणिज्ज (उप पु १२६) ।
 मह पुंन [मह] उत्सव (विपा १, १—पत्र
 ५, रंभा, पाप्र, सण) ।
 मह पु [मख] यज्ञ (चड, गउड) ।
 मह वि [महत्] १ बडा, वृद्ध । २ विपुल,
 विस्तीर्ण । ३ उत्तम, श्रेष्ठ, 'एग मह सत्तुस्तेह'
 (गाथा १, १—पत्र १३, काल, जो ७;
 हे १, ५) । ली. ई (उव, महा) । एवी
 ली [देवी] पटरानी (भवि) । कंतजस
 पुं [कान्तयशस्] राक्षस वश का एक
 राजा, एक लका-मति (पउम ५, २६५) ।
 कमल्ला न [कमल्ला] सख्या-विशेष,
 ८४ लाख कमल की सख्या (जो २) ।
 कण्व न [कान्व] सग-बद्ध उत्तम काव्य-
 ग्रथ (भवि) । काल देखो महा-काल
 (देवेन्द्र २४) । गइ पु [गति] राक्षस वश
 का एक राजा, एक लकेश (पउम ५, २६५) ।
 गगह देखो महा-गाह (सम ६३) । गय
 वि [अर्थ] महा-मूल्य, कीमती (सुर ३,
 १०३, सुपा ३७) । गधविअ वि [अर्थित]
 १ महंगा, दुर्लभ (से १४, ३७) । २
 विभूषित, 'विमलगीवगणुणमहगधविया'
 (सुपा १, ६०) । ३ सम्मानित, 'अच्चियवदियपूइय-
 सक्कारियपणमिओ महगधविओ' (उव) ।
 गियम (अप) वि [अर्थित] बहु-मूल्य,

महंगा (भवि) । चद पु [चन्द्र] १
 राजकुमार-विशेष (विपा २, ५, ६) । २
 एक राजा (विपा १, ४) । च वि [अर्थ]
 १ बडा ऐश्वर्यवाला । २ बडी पूजा—सत्कार-
 वाला (ठा ३, १—पत्र ११७, भग) ।
 च वि [अर्थ] अति पूज्य (ठा ३, १,
 भग) । च्छरिय न [आश्चर्य] बडा
 आश्चर्य (सुर १०, ११८) । जवस्व पु
 यक्ष भगवान् अजितनाथ का शासना-
 विहायक देव (पव २६, सति ७) । जाळा
 ली [ज्वाला] विद्यादेवी-विशेष (संति ६) ।
 ज्जुइय वि [द्युतिक] महान् तेजवाला
 (भग, औप) । डिह ली [द्वि] महान्
 वैभव (राय) । डिहय, इडोअ वि
 [द्विक] विपुल वैभववाला (भग, औपमा
 १०) । णव पु [अर्णव] महा-सागर
 (सुपा ४१७, हे १, २६६) । णवा ली
 [अर्णवा] १ बडी नदी । २ समुद्र-नागिनी
 (कस ४, २७ टि, बृह ४) । तुडियग न
 [तुडिताङ्ग] ८४ लाख तुटित की सख्या
 (जो २) । तण न [त्व] बडाई, महत्ता
 (आ २७) । त्र वि [त्र] १ बहुत बडा
 (स्वण २८) । २ मुखिया, नायक, प्रधान
 (कप्प, औप, विपा १, ८) । ३ अन्त पुर
 का रक्षक (औप) । ली रिया, री (ठा
 ४, १—पत्र १६८, इक) । त्य वि [अर्थ]
 महान् शर्यवाला (गाथा १, ८, आ २७) ।
 त्य न [अन्न] अन्न-विशेष, बडा हथियार
 (पउम ७१, ६७) । थिय पुली [थैत्व]
 महार्थता (भवि) । दल्लि वि [दल्लि]
 बडा दलवाला (प्रासू १२३) । इह पुं
 [इह] बडा हृद (गाथा १, १—पत्र ६४,
 गा १८६ अ) । हि ली [अडि] १ बडी
 याचना । २ परिग्रह (पएह १, १—पत्र
 ६२) । इडुम पु [ड्रम] १ महान् वृत्न
 (हे ४, ४४५) । २ वैरोचन इन्द्र के एक
 पदाति-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र
 ३०२) । द्वि वि [द्वि] बडी अद्विवाता
 (कुमा) । धूम पु [धूम] बडा धुमा
 (महा) । त्रव देखो णव (आ २८) ।
 पाण न [प्राण] व्यान-विशेष (सिरि १३३०) ।
 पुडरीअ पु [पुण्डरीक] ग्रह-विशेष

मीत देखो मिच्छ = मित्र (सक्ति १७) ।
मीमस सक [मीमास्] विचार करना ।
कृ 'अ-मीमसा युष्' (स ७३०) ।
मीमसा स्त्री [मीमासा] जैमिनीय दर्शन,
पूर्वमीमासा (सुख ३, १, धर्मवि ३८) ।
मीमसिय वि [मीमासित] विचारित (उप
६८६ टी) ।
मीरा स्त्री [दे] दीर्घं चुल्ली, बडा चुल्हा
(सूत्रनि ७६) ।
मील अक [मील्] मीचाना, बन्द होना,
सकुचाना । मीलइ (हे ४, २३२, पड्) ।
मील देखो मिल (वि ११) ।
मीलच्छीकार पु [मीलच्छीकार] १ यवन
देश-विशेष, 'मीलच्छीकारदेशोवरि चलिदो
सपरखाणराया' (हम्मोर ३५) । २ एक
यवन राजा (हम्मोर ३५) ।
मीलण न [मीलन] सकोच (कुमा) ।
मीलण देखो मिलण, 'खण्णणमण्णमीलणोवमा
विसया' (वि ११, राज) ।
मीलिअ देखो मिलिअ = मिलित (पिण) ।
मीस सक [मिश्रय्] मिलाना, मिश्रण
करना । कर्म मीसिज्जइ (पि ६४) ।
मीस वि [मिश्र] १ सयुक्त, मिला हुआ,
मिश्रित (हे १, ४३, २, १७०, कुमा, कम्म
२, १३, १५, ४, १३, १७, २४, भग,
श्रौप, द २२) । २ न लगातार तीन दिनो
का उपवास (सवोध ५८) ।
मीसालिअ वि [मिश्र] सयुक्त, मिला हुआ
(हे २, १७०, कुमा) ।
मीसिय वि [मिश्रित] ऊपर देखो (कुमा,
कप्प, भवि) ।
मुअ सक [मोदय्] खुश करना । कवक्क,
मुइज्जत (से ७, ३७) ।
मुअ नक [मुच्] छोडना । मुअइ (हे ४,
६१), मुअति (गा ३१६) । कक्क मुअत,
मुयमाण (गा ६४१, से ३, ३६, पि ४८५) ।
सक्क मुइत्ता (भग) ।
मुअ वि [मूत्] मरा हुआ (से ३, १२, गा
१४२, वजा १५८, प्राप् ५७, पउम १८,
१६, उप ६८८ टी) । 'वहण न [वहण]
शव-यान, ठठये, शरयो (दि २, २०) ।

मुअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (सूअ २,
७, ३८, आचा) ।
मुअक देखो मिअक (प्राक्क ८) ।
मुअग देखो मिअग (षड्, सम्मत २१८) ।
मुअगी स्त्री [दे] कीटिका, चीटी (दि ६,
१३४) ।
मुअग्ग पु [दे] 'आत्मा वाह्य और अन्त्यन्तर
पुद्गलो से बना हुआ है' ऐसा मिथ्या ज्ञान
(ठा ७ टी—पत्र ३८३) ।
मुअण न [मोचन] छुटकारा, छोडना (सम्मत
७८, विसे ३३१६, उप ५२०) ।
मुअल (अप) देखो मुअ = मृत (पिण) ।
मुआ स्त्री [मून्] मिट्टी (सक्ति ४) ।
मुआ स्त्री [मुद्] हर्ष, खुशी, आनन्द,
'सुरयरसाओवि मुय अहिय उवजणइ तस्स
सा एसा' (रभा) ।
मुआइणी स्त्री [दे] डुम्बो, डोमिन, चाण्डालिन
(दि ६, १३५) ।
मुआविअ वि [मोचित] छुडवाया हुआ (स
४४६) ।
मुइ वि [मोचिन्] छोडनेवाला (विसे ३४०२) ।
मुइअ वि [मुदित] १ हर्षित, मोद-प्राप्त (सुर
७, २२३, प्राप् १०५, उव, श्रौप) । २ पु
रावण का एक सुभट, (पउम ५६, ३२) ।
मुइअ वि [दे] योनि-शुद्ध, निर्दोष मातावाला,
'मुइओ जो होई जोगिमुद्धो' (श्रौप—टी) ।
मुइअगा देखो मुअगी, 'उवल्लिप्पते काया
मुद्धश्रागाई नवरि छट्टे' (पिड ३५१) ।
मुइग देखो मिअग (हे १, ४६, १३७, प्राप्,
उवा, कप्प, सुपा ३६२, पाअ) । 'पुक्खर
पुन [पुक्कर] मुदग का ऊपरवाला भाग
(भग) ।
मुइगलिया } स्त्री [दे] कीटिका, चीटी (उप
मुइगा } १३४ टी, सथा ८६, विसे
१२०८, पिड ३५१ टी) ।
मुइगि वि [मूदजिन्] मुदग बजानेवाला
(कुमा) ।
मुइद देखो मइद = मुगेन्द्र (प्राक्क ८) ।
मुइज्जत देखो मुअ = मोदय ।
मुइर वि [मोक्त्] छोडनेवाला (सण) ।
मुउ देखो मिउ (काल) ।

मुउउद पु [मुचुकुन्द] १ नृप-विशेष (अच्छु
६६) । २ पुष्पवृक्ष-विशेष (कप्प) ।
मुउद पुं [मुकुन्द] विष्णु, नारायण (नाट—
चैत १२६) ।
मुउर देखो मउर = मुकुर (षड्) ।
मुउल देखो मउल = मुकुल (षड्, मुद्रा ८४) ।
मुगायण न [मुङ्गायण] गोत्र-विशेष, विशाखा
नक्षत्र का गोत्र (इक) ।
मुच देखो मुअ = मुच् । मुंचइ, मुचए (षड्,
कुमा) । भुका मुची (भत्त ७६) । भवि,
मोच्छ, मोच्छिहि, मुचिहिइ (हे ३, १७१,
पि ५२६) । कर्म. मुच्चइ, मुचए, मुच ति
(आचा, हे ४, २०६, महा, भग) । भवि,
मुचिहिति (भग) । कवक्क मुचत (कुमा) ।
कवक्क मुचत (पि ५४२) । सक. मोत्तु,
मोत्तुआण, मोत्तूण (कुमा, षड्, प्राक्क ३४) ।
हेक्क मोत्त (कुमा), मुचणहि (अप) (कुमा) ।
कृ मोत्तव्व, मुत्तव्व (हे ४, २१२, गा
६७२, सुपा ५८६) ।
मुज पुन [मुअ] मूँज, तृण-विशेष, जिसकी
रस्सी बनाई जाती है (सूअ २, १, १६,
गच्छ २, ३६, उप ६४८ टी) । 'मेहला
स्त्री [मेखला] मूँज का कटिसूत्र (एया १,
१६—पत्र २१२) ।
मुंजइ न [मौअकिन्] १ गोत्र विशेष । २
पुष्पी, गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।
मुजकार पु [मुअकार] मूँज की रस्सी
बनानेवाला शिल्पी (अणु १४६) ।
मुजायण पु [मौआयन] ऋषि-विशेष (हे
१, १६०, प्राप्) ।
मुजि पु [मौजिन्] ऊपर देखो (प्राक्क १०) ।
मुट वि [दे] हीन शरीरवाला,
'जे बभवेरभट्टा पाए पाडति बभयारीण ।
ते हति दुट्ठु टा बोहीवि सुदुल्लहा तेसि'
(सवोध १४) ।
मुंड सक [मुण्डय्] १ मूँडना, बाल
उखाडना । २ दीक्षा देना, संन्यास देना ।
मुडइ (भवि), मुडेह (सूअ २, २, ६३) ।
प्रयो, कक्क मुंडावेत्त (पचा १०, ४८ टी) ।
हेक्क. मुडावेत्त, मुडावित्तए, मुडावेत्तए
(पचा १०, ४८, ठा २, १, कस) ।

पुत्र (निर १, १) । °कण्हा स्त्री [°कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) । °कप्प पु [°कल्प] १ जैन ग्रन्थ-विशेष (एदि) । २ काल का एक परिमाण (भग १५) । °कमल न [°कमल] सख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकमलाग की सख्या (जो २) । °कव्व देखो °मह-कव्व (सम्मत् १४६) । °काय पु [°काय] १ महोरग देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३, इक) । २ वि महान् शरीरवाला (उवा) । °काल पु [°काल] १ महाग्रह-विशेष, एक ग्रह-देवता (सुज २०, ठा २, ३) । २ दक्षिण लवण-समुद्र के पाताल-कलश का अधिष्ठायक देव (ठा ४, २—पत्र २२६) । ३ एक इन्द्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ४ परमाधार्मिक देवों की एक जाति (सम २८) । ५ नाथु-कुमार देवों का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । ६ वेलम्ब इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । ७ नव निधियों में एक निधि, जो घातुओं की पूति करता है (उप ६८६ टी, ठा ६—पत्र ४४६) । ८ सातवीं नरक-भूमि का एक नरकावास (ठा ५, ३—पत्र ३४१, सम ५८) । ९ पिशाच देवों की एक जाति (राज) । १० उज्जयिनी नगरी का एक प्राचीन जैन मन्दिर (कुप्र १७४) । ११ शिव, महादेव (आव ६) । १२ उज्जयिनी का एक श्मशान (अत) । १३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, १) । १४ न. एक देव-विमान (सम ३५) । °काली स्त्री [°काली] १ एक विद्या-देवी (सति ५) । २ भगवान् सुमतिनाथ की शासन-देवी (सति ६) । ३ राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) । °किण्हा स्त्री [°कृष्णा] एक महा-नदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१) । °कुमुद, °कुमुय न [°कुमुद्] १ एक देव-विमान (सम ३३) । २ सख्या-विशेष, चौरासी लाख महाकुमुदाग की सख्या (जो २) । °कुमुयअग न [°कुमु-दाङ्ग] सख्या, कुमुद की चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह (जो २) । °कूम पु [°कूमे] कूर्मावतार (गउड) ।

°कुल न [°कुल] १ श्रेष्ठ कुल (निच्च ८) । २ वि. प्रशस्त कुल में उत्पन्न, 'निकृष्टता जे महाकुला' (सूय १, ८, २४) । °गगा स्त्री [°गङ्गा] परिमाण-विशेष (भग १५) । °गह पुं [°ग्रह] १ सूर्य आदि ज्योतिष्क (सार्धं ८७) । °गह वि [°आग्रह] आग्रही, हठी (सार्धं ८७) । °गिरि पु [°गिरि] १ एक जैन महर्षि (उव, कप्प) । २ बड़ा पर्वत (गउड) । °गोव पु [°गोप] १ महान् रत्नक । २ जिन भगवान् (उवा, विसे २६५६) । °घोस पु [°घोप] १ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । २ एक इन्द्र, स्तनित कुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (अ २, ३—पत्र ८५) । ३ एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । ४ परमाधार्मिक देवों की एक जाति (सम २६) । ५ न देवविमान-विशेष (सम १२, १७) । च्द पु [°चन्द्र] ऐरवत वर्ष के एक भावी तीर्थंकर (सम १५४) । °जणिअ पु [°जनिक] श्रेष्ठी, सार्धंवाह आदि नगर के गण्य-मान्य लोग (कुमा) । °जलहि पु [°जलधि] महा-सागर (सुपा ४७४) । °जस पु [°यज्ञस्] १ भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (ठा ८—पत्र ४२६) । २ ऐरवत क्षेत्र के चतुर्थ भावी तीर्थंकर-देव (सम १५४) । ३ वि महान् यशस्वी (उत्त १२, २३) । °जाइ स्त्री [°जाति] गुल्म-विशेष (परण १) । °जाण न [°यान] १ बड़ा यान—वाहन । २ चारित्र, सयम (आचा) । ३ एक विद्याधर-नगर का नाम (इक) । ४ पु मोक्ष, मुक्ति (आचा) । °जुद्ध न [°युद्ध] वडी लडाईं (जीव ३) । °जुम्म पुं न [°युग्म] महात् राशि (भग ३५) । °ण देखो °यण, 'गामबुआरुआसे अगडसमीवे महाणमज्जे वा' (शोध ६६) । °णई स्त्री [°नदी] वडी नदी (गउड, पउम ४०, १३) । °णदियावत्त पु [°नद्यावर्त] १ घोप नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । २ न. एक देवविमान (सम ३२) । °णगर देखो °नगर (राज) । °णलिण देखो °नलिण (राज) । °णील न [°नील] १ रत्न-विशेष । २ वि अति नील वर्णवाला (जीव ३, श्रौप) । °णीला देखो

°नीला (राज) । °णुभाअ, °णुभाग वि [°अनुभाग] महानुभाव, महाशय (नाट—मालती ३६, गच्छ १, ४, भग, सिरि १६) । °णुभाव वि [°अनुभाव] वही अर्थ (सुर २, ३५, द्र ६६) । °तमपहा स्त्री [°तम-प्रभा] सतम नरक-पृथिवी (पव १७२) । °तमा स्त्री [°तमा] वही (चेद्य ७५६) । °तीरा स्त्री [°तीरा] नदी-विशेष (ठा ५, ३—पत्र ३५१) । °तुडिअ न [°त्रुटित] महाश्रुटिताग को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह, सख्या-विशेष (जो २) । °दामट्टि पु [°दामास्थि] ईशानेन्द्र के वृषभ-सैन्य का अधिपति (इक) । °दामडि पु [°दामडि] वही अर्थ (ठा ५, १—पत्र ३०३) । °दुम देखो मह-दुम (इक) । २ न एक देव-विमान (सम ३५) । °दुमसेण पु [°द्रुमसेन] राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु २) । °देव पुं [°देव] १ श्रेष्ठ देव, जिन-देव (पउम १०६, १२) । २ शिव, गौरी-पति (पउम १०६, १२, सम्मत् ७६) । °देवी स्त्री [°देवी] पटरानी (कप्प) । °धण पु [°धन] एक वणिक (पउम ५५, ३८) । °धणु पु [°धनुप] बलदेव का एक पुत्र (निर १, ५) । °नई स्त्री [°नदी] वडी नदी (सम २७, कस) । °नदिआवत्त देखो °णदियावत्त (इक) । °नगर न [°नगर] बड़ा शहर (परह २, ४) । °नय पु [°नद] ब्रह्मपुत्रा आदि वडी नदी (आवम) । °नलिण न [°नलिन] १ सख्या-विशेष, महानलिनग को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (जो २) । २ एक देव-विमान (सम ३३) । °नलिणग न [°नलिनाङ्ग] सख्या-विशेष, नलिन को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (जो २) । °निज्जामय पु [°निर्यामक] श्रेष्ठ कण्ठवार (उवा) । °निहा स्त्री [°नित्रा] मृत्यु, मरण (पउम ६, १६८) । °निनाद, °निनाय वि [°निनाद] प्रख्यात, प्रसिद्ध (शोध ८६, ८६ टी) । °निसीद न [°निसीथ] एक जैन आगम-ग्रन्थ (गच्छ ३, २६) । °नीला स्त्री [°नीला] एक महानदी

मीत देखो मित्त = मित्र (सक्ति १७) ।
मीमस सक [मीमास्] विचार करना ।
कृ अ-मीमसा गुल् (स ७३०) ।
मीमसा बी [मीमांसा] जैमिनीय दर्शन,
पूर्वमीमासा (सुख ३, १, धर्मवि ३८) ।
मीमसिय वि [मीमासित] विचारित (उप
६८६ टी) ।
मीरा बी [दे] दीर्घ चुल्ही, बडा चुल्हा
(सूअनि ७६) ।
मील अक [मील्] मीचाना, बन्द होना,
सकुचाना । मीलइ (हे ४, २३२, पड्) ।
मील देखो मिल (वि ११) ।
मीलच्छीकार पु [मीलच्छीकार] १ यवन
देश-विशेष, 'मीलच्छीकारदेशोवरि चलिदो
खपरखाणराया' (हम्मोर ३५) । २ एक
यवन राजा (हम्मोर ३५) ।
मीलण न [मीलन] सकोच (कुमा) ।
मीलण देखो मिलण, 'खण्णणमणमीलणोवमा
विसया' (वि ११, राज) ।
मीलिअ देखो मिलिअ = मिलित (पिग) ।
मीस सक [मिश्रय्] मिलाना, मिश्रण
करना । कर्म मीसिजइ (पि ६४) ।
मीस वि [मिश्र] १ सयुक्त, मिला हुआ,
मिश्रित (हे १, ४३, २, १७०, कुमा, कम्म
२, १३, १५, ४, १३, १७, २४, भग,
ओप, द २२) । २ न. लगातार तीन दिनों
का उपवास (सवोष ५८) ।
मीसालिअ वि [मिश्र] सयुक्त, मिला हुआ
(हे २, १७०, कुमा) ।
मीसिय वि [मिश्रित] ऊपर देखो (कुमा,
कम्म, भवि) ।
मुअ सक [मोटय्] खुश करना । कवक,
मुइज्जत (से ७, ३७) ।
मुअ नक [मुच्] छोडना । मुअइ (हे ४,
६१), मुअति (गा ३१६) । वक मुअत,
मुयमाण (गा ६४१, से ३, ३६, पि ४८५) ।
सक मुइत्ता (भग) ।
मुअ वि [मृत] मरा हुआ (से ३, १२, गा
१०२, वजा १५८, प्रासू ५७, पउम १८,
१६, उप ६८८ टी) । 'वहण न [चहन]
यव-यान, ठठी, अरथी (दे २, २०) ।

मुअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (सूअ २,
७, ३८, आचा) ।
मुअक देखो मिअक (प्राकृ न) ।
मुअग देखो मिअग (षड्, सम्मत २१८) ।
मुअगी बी [दे] कीटिका, चीटी (दे ६,
१३४) ।
मुअगग पु [दे] 'आत्मा बाह्य और अम्यन्तर
पुदगलो से बना हुआ है' ऐसा मिथ्या ज्ञान
(ठा ७ टी—पत्र ३८३) ।
मुअण न [मोचन] छुटकारा, छोडना (सम्मत
७८, विसे ३३१६, उप ५२०) ।
मुअल (अप) देखो मुअ = मृत (पिग) ।
मुआ बी [मृन्] मिट्टी (सक्ति ४) ।
मुआ बी [मुद्] हर्ष, खुशी, आनन्द,
'सुरयरसाओवि मुय अहिय उवजणइ तत्स
सा एसा' (रभा) ।
मुआइणी बी [दे] डुम्बी, डोमिन, चाण्डालिन
(दे ६, १३५) ।
मुआविअ वि [मोचित] छुडवाया हुआ (स
४४६) ।
मुइवि [मोचिन्] छोडनेवाला (विसे ३४०२) ।
मुइअ वि [मुदित] १ हर्षित, मोद-प्राप्त (सुर
७, २२३, प्रासू १०५, उव, ओप) । २ पु
रावण का एक मुमट, (पउम ५६, ३२) ।
मुइअ वि [दे] योनि-शुद्ध, निर्दोष मातावाला,
'मुइओ जो होई जोणिसुद्धो' (ओप—टी) ।
मुइअगा देखो मुअगी, 'उवल्लिपते काया
मुइअगाई नवरि छ्ठे' (पिड ३५१) ।
मुइग देखो मिअग (हे १, ४६, १३७, प्राप्र,
उवा, कप्प, सुपा ३६२, पाअ) । 'पुक्खर
पुन [पुक्कर] मुदग का ऊपरवाला भाग
(भग) ।
मुइगलिया } बी [दे] कीटिका, चीटी (उप
मुइगा } १३४ टी, सया ८६, विसे
१२०८, पिड ३५१ टी) ।
मुइगि वि [मृदङ्गिन्] मुदग बजानेवाला
(कुमा) ।
मुइद देखो मइद = मृगेन्द्र (प्राकृ न) ।
मुइज्जत देखो मुअ = मोदय ।
मुइर वि [मोकृत्] छोडनेवाला (सण) ।
मुउ देखो मिउ (काल) ।

मुउरंद पु [मुचुकुन्द] १ नृप-विशेष (अच्छु
६६) । २ पुष्पवृक्ष-विशेष (कप्प) ।
मुउद पु [मुकुन्द] विष्णु, नारायण (नाट—
चैत १२६) ।
मुउर देखो मउर = मुकुर (षड्) ।
मुउल देखो मउल = मुकुल (षड्, मुद्रा ८४) ।
मुगायण न [मृङ्गायण] गोत्र-विशेष, विशाला
नक्षत्र का गोत्र (इक) ।
मुच देखो मुअ = मुच् । मुंचइ, मुचए (षड्;
कुमा) । भूका मुची (भत्त ७६) । भवि.
मोच्छ, मोच्छिहि, मुचिहिइ (हे ३, १७१,
पि ५२६) । कर्म मुचइ, मुचए, मुच ति
(आचा, हे ४, २०६, महा, भग) । भवि.
मुचिहिति (भग) । वक मुचत (कुमा) ।
कवक मुचंत (पि ५४२) । संकृ. मोत्तु,
मोत्तुआण, मोत्तूण (कुमा, षड्, प्राकृ ३४) ।
हेक मोत्तु (कुमा), मुचणहि (अप) (कुमा) ।
क. मोत्तव्व, मुत्तव्व (हे ४, २१२, गा
६७२, सुपा ५८६) ।
मुज पुन [मुञ्ज] मूँज, तृण-विशेष, जिसकी
रस्सी बनाई जाती है (सूअ २, १, १६,
गच्छ २, ३६, उप ६४८ टी) । 'मेहला
बी [मेखला] मूँज का कटिसूत्र (राया १,
१६—पत्र २१३) ।
मुजइ न [मौञ्जिक्न्] १ गोत्र विशेष । २
पुत्री, गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।
मुजकार पुं [मुञ्जकार] मूँज की रस्सी
बनानेवाला शिल्पी (अणु १४६) ।
मुजायण पु [मौञ्जायन] ऋषि-विशेष (हे
१, १६०, प्राप्र) ।
मुजि पु [मौञ्जिन्] ऊपर देखो (प्राकृ १०) ।
मुट वि [दे] हीन शरीरवाला,
'जे वमचेरभट्टा पाए पाडति बभयारीण ।
ते हति दुव्मुदा वोहीवि सुद्धहा तेसि'
(सवोष १४) ।
मुड सक [मुण्डय्] १ मूँडना, बाल
उखाडना । २ दीक्षा देना, संन्यास देना ।
मुडइ (भवि), मुडेह (सूअ २, २, ६३) ।
प्रयो, वक मुंडावेत्त (पंचा १०, ४८ टी) ।
हेक. मुडावेत्त, मुडावित्तए, मुडावेत्तए
(पंचा १०, ४८, ठा २, १, कस) ।

हजार योद्धाओं के साथ अकेला ब्रूम्हनेवाला (सूत्र १, ३, १, १, गउड) । °रहि वि [°रथिन्] देखो पूर्व का २रा और ३रा अर्थ (उप ७२८ टी) । °राय पु [°राज] १ बड़ा राजा, राजाधिराज (उप ७६८ टी, रभा, महा) । २ सामानिक देव, इन्द्र-समान ऋद्धिवाला देव (सुर १५, ६) । ३ लोकपाल देव (सम ८६) । °रिद्ध पुं [°रिष्ठ] बलि नामक इन्द्र का एक सेनापति (इक) । °रिसि पुं [°रिषि] बड़ा मुनि, श्रेष्ठ साधु (उव) । °रिह, °रुह देखो मह-रिह (पि १४०, अमि १८७) । °रोरु पु [°रोरु] अग्रतिष्ठान नरकेन्द्रक की उत्तर दिशा में स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २४) । °रोरुअ पु [°रोरुक, °रौरव] सातवीं नरक-भूमि का एक नरकावास—नरक-स्थान (सम ५८, ठा ५, ३—पत्र ३४१, इक) । °रोहिणी स्त्री [°रोहिणी] एक महा-विद्या (राज) । °लंजर पु [°अलंजर] बड़ा जल कुम्भ (ठा ४, २—पत्र २२६) । °लच्छी स्त्री [°लक्ष्मी] १ एक श्रेष्ठि-भार्या (उप ७२८ टी) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ श्रेष्ठ लक्ष्मी । ४ लक्ष्मी-विशेष (नाट) । °लयंग न [°लताङ्ग] सख्या-विशेष, लता नामक सख्या को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक, जो २) । °लया स्त्री [°लता] सख्या-विशेष, महालताग को चौरासी लाख से गुणने पर जो सख्या लब्ध हो वह (जो २) । °लोहिअक्ख पु [°लोहिताक्ष] वलीन्द्र के महिप-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक) । °वक्क न [°वान्क्य] परस्पर-संबद्ध अर्थ वाले वाक्यों का समुदाय (उप ८५६) । °वच्छ पुं [°वत्स] विजय-विशेष, विदेह वर्ष का एक प्रान्त (ठा २, ३, इक) । °वच्छा स्त्री [°वत्सा] वही (इक) । °वण न [°वन्] मथुरा के निकट का एक वन (तो ७) । °वण पुन [°आपण] बड़ी दुकान (भवि) । °वप्प पुं [°वप्प] विजयक्षेत्र-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) । °वय देखो मह-व्वय (सुपा ६५०) । °वराह पु [°वराह] १ विष्णु का एक अवतार (गउड) । २ बड़ा सूअर (सूत्र १, ७, २५) । °वह

देखो °पह (से १, ५८) । °वाउ पु [°वायु] ईशानेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०३, इक) । °वाड पुं [°वाट] बड़ा बाबा, महान् गोष्ठ; 'निव्वाणमहावाड' (उवा) । °विगइ स्त्री [°विकृति] अति विकार-जनक ये वस्तु—मधु, मास, मद्य और माखन (ठा ४, १—पत्र २०४, अत) । °विजय वि [°विजय] बड़ा विजयवाला, 'महाविजयपुष्करतपवरपुंडरीयाओ महाविमाणाओ' (कप्प) । °विदेह पु [°विदेह] वर्ष-विशेष, क्षेत्र-विशेष (सम १२, उवा, औप, अंत) । °विमाण न [°विमान] श्रेष्ठ देव-गृह (उवा) । °विल न [°विल] कन्दरा आदि बड़ा विवर (कुमा) । °वीर पु [°वीर] १ वर्तमान समय के अन्तिम तीर्थंकर (सम १, उवा, विपा १, १) । २ वि महान् पराक्रमी (किरात १६) । °वीरिअ पु [°वीर्य] इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पउम ५, ५) । °वीहि, °वीही स्त्री [°वीधि, °धी] बड़ा बाजार (पउम ६६, ३४) । २ श्रेष्ठ मार्ग (आचा) । °वेग पु [°वेग] एक देव-जाति, भूतो की एक प्रकार की जाति (राज, इक) । °वैजयती स्त्री [°वैजयन्ती] बड़ी पताका, विजय-पताका, (कप्प) । °सई स्त्री [°सती] उत्तम पतिव्रता स्त्री (उप ७२८ टी, पडि) । °सउणि स्त्री [°शकुनि] एक विद्याधर-स्त्री (पएह १, ४—पत्र ७२) । °सड्डि वि [°अद्रिन्] बड़ी श्रद्धावाला (आचा, पि ३३३) । °सत्त वि [°सत्त्व] पराक्रमी (त्र ११, महा) । °समुइ पु [°समुद्र] महासागर (उवा) । सयग, °सयय पु [°शतक] भगवान् महावीर का एक उपासक (उवा) । °सामाण न [°सामान] एक देव-विमान (सम ३३) । °साल पु [°शाल] एक युवराज (पडि) । °सिलान्ठय पु [°शिलाकण्ठक] राजा कृष्णिक और चेटकराज की लडाई (भग ७, ६—पत्र ३१५) । °सीह पु [°सिंह] एक राजा, पृथु बलदेव और वासुदेव का पिता (ठा ६—पत्र ४४७) । °सीहणिकीलिय, °सीहणिकीलिय न [°सिहणिकीडित] तप-विशेष (राज, पय २७१—गाया १५२२) । °सीहसेण पु [°सिहसेन]

भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर देवलोक में उत्पन्न राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु २) । °सुक्क पु [°शुक्क] १ एक देवलोक, सातवाँ देवलोक (सम ३३, विपा २, १) । २ सातवें देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ न एक देव-विमान (सम ३३) । °सुमिण पु [°स्वप्न] उत्तम फल का एक सूचक स्वप्न (गाया १, १—पत्र १३, पि ४४७) । °सुर पु [°असुर] १ बड़ा दानव । २ दानवों का राजा हिरण्यकशिपु (से १, २, गउड) । °सुव्वय, °सुव्वया स्त्री [°सुव्रता] भगवान् नेमिनाथ की मुख्य आविका (कप्प, आवम) । °सूला स्त्री [°शूला] फाँसी (आ २७) । °सेअ पु [°श्वेत] एक इन्द्र, कूष्माण्ड नामक वान-व्यन्तर देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (इक, ठा २, ३—पत्र ८५) । °सेण पु [°सेन] १ ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव (सम १५४) । २ राजा श्रेणिक का एक पुत्र जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (अनु २) । ३ एक राजा (विपा १, ६—पत्र ८८) । ४ एक यादव (गाया १, ५) । ५ न एक वन (विसे २०८६) । देवों मह-सेण । °सेणकण्ठ पु [°सेनकण्ठ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (पि ५२) । °सेणकण्ठा स्त्री [°सेनकण्ठा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) । °सेल पु [°शैल] १ बड़ा पर्वत (गाया १, १) । २ न नगर-विशेष (पउम ५५, ५३) । °सोआम, °सोदास पु [°सौदाम] वेरोचन वलीन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १, इक) । °हरि पु [°हरि] एक नर-पति, दसवें चक्रवर्ती का पिता (सम १५२) । °हिमव, °हिमवत पु [°हिमवन्] १ पर्वत-विशेष (पउम १०२, १०५, ठा २, २, महा) । २ देव-विशेष (जं ८) । महाअत्त वि [°दे] ब्राह्म, श्रीमन्त (दे ६, ११६) । महाइय पु [°दे] महात्मा (भवि) । महाणड पु [°दे, महानट] रुद्र, महादेव (दे ६, ४, १२१) । महाणस न [°महानस] रसोई-घर, पाक-स्थान (गाया १, ८, गा १३, उा २५६ टी) ।

मुद्रिम पुंजी [दे] गर्व, अहकार, गुजरती मे 'मोटाई', 'कयमुद्रिमगीकारो' (हम्मीर ३५)। देखो मोद्रिम।

मुद्र वि [मुद्र, मुद्रित] जिसकी चोरी हुई हो वह (पिंड ४६६, सुर २, ११२, सुपा ३६१, महा)।

मुद्रि पुंजी [मुद्रि] मुट्टी, मूठी, धूँसा, मुका, 'मुद्रिया', 'मुट्टी' (पि ३७६, ३८५, पात्र, रमा, भवि)। 'जुज्म न [युद्ध] मुद्रि से की जाती लडाई, मूकामूकी (आचा)। 'पुत्थय न [पुस्तक] १ चार अगुल लम्बा वृत्ताकार पुस्तक। २ चार अगुल लम्बा चतुष्कोण पुस्तक (पव ८०)।

मुद्रिअ पु [मौद्रि] १ अनार्य देश-विशेष। २ एक अनार्य मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४)। ३ मुट्टी से लडनेवाला मल्ल (परह २, ५—पत्र १४६)। ४ वि. मुद्रि-सम्बन्धी (कप्प)।

मुद्रिअ पु [मुद्रिक] १ मल्ल-विशेष, जिसको बलदेव ने मारा था (परह १, ४—पत्र ७२, पिंग)। २ अनार्य देश-विशेष। ३ एक अनार्य मनुष्य जाति (इक)।

मुद्रिका स्त्री [दि] हिक्का, हिचकी (दे ६, १३४)।

मुद्र देवो मुद्र (कुमा)।

मुद्र वि [मुद्र, मुद्र] मूल, वेवकूप (हम्मीर ५१)।

मुण सक [ज्ञा, मुण] जानना। मुणइ, मुणति, मुणियो (हे ४, ७, कुमा)। कर्म, मुणिज्जइ (हे ४, २५२), मुणिज्जापि (हास्य १३८)। वक्र, मुणंत, मुणित (महा, पउम ४८, ६)। कवक, मुणिज्जमाण (से २, ३६)। सक, मुणिय, मुणित, मुणिऊण, मुणेऊण (औप, महा)। क, मुणिअव्व, मुणेअव्व (कुमा, से ४, २४, न ८२, कप्प, उव, जी ३२)।

मुणण न [ज्ञान मुणण] ज्ञान, जानकारी (कुप्र १८८, सबोध २५, धर्मवि १२५, सण)।

मुणमुण सक [मुणमुणाय्] अत्यक्त शब्द करना, बयनबाना। वक्र मुणमुणत, मुणमुणित (महा)।

मुणाल पुन [मृणाल] १ पद्मकन्द के ऊपर की बेल—लता (आन्वा २, १, ८, ११)।

२ बिस, पद्मनाल। ३ पद्म आदि के नाल का तन्तु—सूत्र (पात्र, राया १, १३, औप)। ४ वीरण का मूल। ५ पद्म, कमल, 'मुणालो', 'मुणाल' (प्राप्र, हे १, १३१)।

मुणालि पु [मृणालिन्] १ पद्म-समूह। २ पद्म-युक्त प्रदेश, कमलवाला स्थान, 'मुणाली बाणाली' (सुपा ४१३)।

मुणालिआ स्त्री [मृणालिका, ली] १ मुणाली } बिस-तन्तु, कमल-नाल का सूता (नाट—रत्ना २६)। २ बिस का अकुर (गडड)। ३ कमलिनी (राज)। देखो मणालिया।

मुणि पु [मुनि] १ राग द्वेष-रहित मनुष्य, सत, साधु, ऋषि, यति (आचा, पात्र, कुमा, गडड)। २ अगत्य ऋषि, 'जलहिजल व मुणिया' (सुपा ४८६)। ३ सात की सख्या। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। 'चद् पु [चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और अथकार, जो वादी देवसूरि के गुरु थे (धम्मो २५)। २ एक राज-पुत्र (महा)। 'नाह पुं [नाथ] साधुओ का नायक (सुपा १६०, २५०)। 'पुगव पु [पुङ्गव] श्रेष्ठ मुनि (सुपा ६७, श्रु ४१)। 'राय पु [राज] मुनि-नायक (सुपा १६०)। 'वइ पु [पति] वही अर्थ (सुपा १८१, २०६)। 'वर पु [वर] श्रेष्ठ मुनि (सुर ४, ५६, सुपा २४४)। 'वैजयत पु [वैजयन्त] मुनि-प्रधान, श्रेष्ठ मुनि (सूअ १, ६, २०)। 'सीह पु [सिंह] श्रेष्ठ मुनि (पि ४३६)। 'सुव्वय पु [सुव्रत] १ वर्तमान काल में उत्पन्न भारतवर्ष के बीसवें तीर्थंकर (सम ४३)। २ भारतवर्ष के एक भावी तीर्थंकर (सम १५३)।

मुणि पु [दि, मुनि] वृक्ष-विशेष, अगस्ति-द्रुम (दे ६, १३३, कुमा)।

मुणिअ वि [ज्ञात, मुणित] जाना हुआ (हे २, १६६, पात्र, कुमा, अवि १६, परह १, २, उप १४३ टी)।

मुणिअ वि [दे मुणिक] ग्रह-गहीत, भूता-विष्ट, पागल (भग १५—पत्र ६६५)।

मुणिद पुं [मुनीन्द्र] श्रेष्ठ मुनि (हे १, ८४, भग)।

मुणिर वि [ज्ञावृ, मुणिवृ] जाननेवाला (सण)।

मुणीश पु [मुनीश] मुनि-नायक (उप १४१ टी, भवि)।

मुणीसर पुं [मुनीश्वर] ऊपर देखो (सुपा ३६६)।

मुणीसिम (अप) पुन [मनुष्यत्व] १ मनुष्यपन। २ पुस्वार्थ (हे ४, ३३०)।

मुत्त सक [मूत्रय्] मूतना, पेशाव करना। मुत्तति (कुप्र ६२)।

मुत्त न [मूत्र] प्रसवण, पेशाव (सुपा ६१६)।

मुत्त देखो मुक्क = मुक्त (सम १, से २, ३०, जो २)। 'लय पुंजी [लय] मुक्त जोवो का स्थान, ईषत्प्राभारा नामक पृथिवी (इक)। स्त्री 'या (ठा ८, —पत्र ४४०, सम २२)।

मुत्त वि [मूर्त] १ मूर्तिवाला, रूपवाला, आकारवाला (चैत्य ६१)। २ कठिन। ३ मूढ। ४ मूर्च्छा युक्त (हे २, ३०)। ५ पुं. उपवास, एक दिन का उपवास (सबोध ५८)। ६ एक प्राण का नाम (कप्प)।

मुत्त देखो मुत्ता (औप, पि ६७, चैत्य १४)।

मुत्तव्व देखो मु च।

मुत्ता स्त्री [मुक्ता] मोती, मौक्तिक (कुमा)।

'जाल न [जाल] मुक्ता-समूह, मोतियो की माला (औप, पि ६७)। 'दाम न [दामन्] मोतियो की माला (ठा ४, २)। 'वलि, 'वली स्त्री [वलि, ली] १ मोती की माला, मोती का हार (सम ४४, पात्र)। २ तप-विशेष (अत ३१)। ३ द्वीप-विशेष। ४ समुद्र-विशेष (राज)। 'सुत्ति स्त्री [शुक्ति] १ मोती की शीप। २ मुद्रा-विशेष (चैद्य २४०, पचा ३, २१)। 'हल न [फल] मोती (हे १, २३६, कुमा, प्रासू २)। 'हल्लि वि [फलवत्] मोतीवाला (कप्प)।

मुत्ति स्त्री [मूर्ति] १ रूप, आकार, 'मुत्ति-विमुत्तेसु' (पिंड ५६, विसे ३१८२)। २ प्रतिबिम्ब, प्रतिमूर्ति, प्रतिमा, 'चउमुहमुत्ति-

महिस्सर पुं [महेश्वर] एक इन्द्र, भूतवादि-
देवो का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—
पत्र ८५)। देखो महेसर।

मही स्त्री [मही] १ धृथिवी, भूमि, वरती
(कुमा, पात्र)। २ एक नदी (ठा ५, २—
पत्र ३०८)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)। °नाह
पुं [°नाथ] राजा (उप पृ १६१)। °पहु
पु [°प्रभु] राजा (उप ७२८ टी)। °पाल
पु [°पाल] वही अर्थ (उप १५० टी, उव)।
°रुह पु [°रुह] वृक्ष, पेड़ (पात्र, सुर ३,
११०, १६, २४८)। °वइ पु [°पति]
राजा (आ २८, उप १४६ टी, सुपा ३८)।
°वीड न [°पीठ] भूमि-तल (सुर २, ७५)।
°स पु [°श] राजा (आ १४)। °सक पुं
[°शक्र] वही अर्थ (आ १४)। देखो
महिं।

महु पुं [मधु] १ एक दैत्य (से १, १,
अच्छु ४०)। २ वसन्त ऋतु, 'सुरही महु
वसतो' (पात्र, कुमा)। ३ चैत्र मास (सुर
३, ४०; १६, १०७, पिंग)। ४ पाँचवाँ
प्रति-वासुदेव राजा (पत्रम ५, १५६)। ५
एक राजा (श्रु ६१)। ६ मथुरा का एक
राज-कुमार (पत्रम १२, २)। ७ चक्रवर्ती
का एक देव-कृत महल (उत्त १३, १३)।
८ मधुक का पेड़, महुआ का गाछ (कुमा)।
९ अशोक-वृक्ष (चड)। १० न मद्य, दारु
(से २, २७)। ११ क्षौद्र, शहद (कुमा, पत्र
४, ठा ४, १)। १२ पुष्प-रस। १३ मधुर-
रस। १४ जल, पानी (प्राप्र, हे ३, २५)।
१५ छन्द-विशेष (पिंग)। १६ मधुर, मिष्ट
वस्तु (परह २, १)। °अर पुं स्त्री [°कर]
अमर, भौरा (पात्र, स्वप्न ७३, श्रौफ,
कप्य, पिंग)। स्त्री °रिआ, °री (अभि
१६०, नाट—मृच्छ ५७)। °अरवित्ति स्त्री
[°करवृत्ति] माधुकरो, भिक्षा-वृत्ति (सुपा
८३)। °अरोगीय न [°करीगीत] नाट्य-
विधि-विशेष (महा)। °आसव वि [°आश्रव]
लविवि-विशेषवाला, जिसके प्रभाव से वचन
मधुर लगे ऐसी लविववाला (परह २, १—
पत्र १००)। °गुलिया स्त्री [°गुटिका]
शहद की गोली (ठा ४, २)। °पडल न
[°पटल] मधुपुडा (दे ३, १२)। °भार

पुं [°भार] छन्द-विशेष (पिंग)। °मक्खिया,
°मच्छिआ स्त्री [°मक्षिका] शहद की
मक्खी, 'अह उड्डियाउ तोमरमुहाउ महुक्खि
(?मक्खि)याउ सव्वत्तो' (धमवि १२४,
गा ६३४)। °मय वि [°मय] मधु से
भरा हुआ (से १, ३०)। °मह पु [°मथ]
विष्णु, वासुदेव, उपेन्द्र (पात्र, से १, १७)।
२ अमर (से १, १७)। °मह पु [°मह]
वसन्त का उत्सव (से १, १७)। °महण
पु [°मथन] १ विष्णु (से १, १, वज्जा २४,
गा ११७, हे ४, ३८४, पि १४३, पिंग)। २
समुद्र, सागर। ३ सेतु, पुल (से १, १)।
°मास पु [°मास] चैत्र मास (भवि)।
°मित्त पु न [°मित्र] कामदेव (सुपा
५२६)। °मेहण न [°मेहन] रोग-विशेष,
मधु-प्रमेह (आचा १, ६, १, २)। °मेहणि
वि [°मेहनिन्] मधु-प्रमेह रोगवाला
(आचा)। °मेहि पु [°मेहिन्] वही अर्थ
(आचा)। °राय पु [°राज] एक राजा
(रयण ७४)। °लट्टि स्त्री [°यष्टि] १
श्लोषवि-विशेष, यष्टिमधु, मुलेठी, जेठी मधु।
२ इक्षु, ईख (हे १, २४७)। °वक पु [°पर्क] १
दधिपुक्त मधु, दही और शहद। २ षोडशोप-
चार पूजा का छठवाँ उपचार (उत्तर १०३)।
°वार पुं [°वार] मद्य, दारु (पात्र)।
°सिंगी स्त्री [°शृङ्गी] वनस्पति-विशेष
(परण १—पत्र ३५)। °सूयण पुं
[°सूदन] विष्णु (गजड, सुपा ७)।

महुअ पु [मधूक] १ वृक्ष विशेष, महुआ
का गाछ (गा १०३)। २ न. महुआ का
फल (प्राप्र, हे १, २२२)।

महुअ पु [दे] १ पक्षि-विशेष, श्रोवद पक्षी।
२ मातंग, स्तुति-पाठक (दे ६, १४४)।

महुण सक [मथ्] १ विलोडन करना।
२ विनाश करना। वक्त्र 'विमुक्कट्टुहासा
जलियजलणपिगलकेसा महुणित-जालाकराल-
पिसाया मुक्का' (महा)।

महुत्त (अप) देखो मुहुत्त (भवि)।

महुप्पल न [महोत्पल] कमल, पद्म, 'महुप्पल
पकय नलिय' (पात्र)।

महुमुह पुं [दे-मधुमुज] पियुन, दुर्जन,
खल (दे ६, १२२)।

महुर पु [महुर] १ अनाय देश-विशेष। २
उस देश में रहनेवाली अनाय मनुष्य-जाति
(परह १, १—पत्र १४)।

महुर वि [मधुर] १ मीठा, मिष्ट (कुमा,
प्राप्र ३३, गजड, गा ४०१)। २ कोमल
(भग ६, ३१, श्रौप)। °भासि वि
[°भाषिन्] प्रिय-भाषी (पत्रम ६, १३३)।
महुरा स्त्री [मथुरा] भारत की एक प्रसिद्ध
नगरी, मथुरा (ठा १०, सम १५३, परह
१, ३, हे २, १५०, कुमा, वज्जा १२२)।
°मगु पु [°मङ्ग] एक प्रसिद्ध जैनार्च्य
(सिक्खा ६२)। °हिव पुं [°धिप] मथुरा
का राजा (कुमा)।

महुरालिअ वि [दे] परिचित (दे ६, १२५)।
महुरिम पुं स्त्री [मधुरिमन्] मधुरता, माधुर्य
(सुपा २६४, कुप्र ५०)।

महुरेस पु [मथुरेश] मथुरा का राजा
(कुमा)।

महुला स्त्री [दे] रोग विशेष, पाद-गण्ड
(निन्न २)।

महुसिस्थ न [मधुसिक्थ] १ मदन, मोम
(उप पृ २०६)। २ पक-विशेष, स्त्री के पैर
में लगा हुआ अलता तक लगनेवाला कादा
(श्लोभा ३३)। ३ कला-विशेष (स ६०२)।

महुस्सव देखो महुसव (राज)।
महुअ देखो महुअ=मधुक (कुमा, हे १,
१२२)।

महुसव पु [महोत्सव] बड़ा उत्सव (सुर ३,
१०८, नाट—मृच्छ ५४)।

महेद देखो महिंद (से ६, २२)।

महेडु पु [दे] पक, कादा (दे ६, ११६)।

महेठम पु [महेभ्य] बड़ा शेट (आ १६)।

महेभ पु [महेभ] बड़ा हाथी (कुमा)।

महेला स्त्री [महेला] स्त्री, नारी (हे १,
१४६, कुमा)।

महेस पु [महेश] नीचे देखो (त्रि ६८, भवि)।

महेसर पु [महेश्वर] १ महादेव, शिव (पत्रम
३५, ६८, धर्मवि १२८)। २ जिनदेव,
अहंर (पत्रम १०६, १२)। ३ श्रीमन्त,
आर्य (सिरि ४२)। ४ नूतवादि देवों के
उत्तर दिशा का इन्द्र (इफ)। °दत्त पु
[°दत्त] एक पुरोहित (विपा १, ५)।

सुरसुरिअ न [दे] रणरणक, उत्सुकता (दे ६, १३६, पात्र)।

सुरह देखो सुरख (षड्)।

मुलासिअ पु [दे] स्फुलिग, अग्नि-कण (दे ६, १३५)।

मुल (अप) देखो मु'च। मुल्लइ (प्राक् ११६)।

मुल्ल पुन [मूल्य] कीमत, 'को मुल्लो' मुल्लिअ (वजा १५२, औप, पात्र, कुमा, प्रयो ७७)।

मुव (अप) देखो मुअ = मुच्। मुवइ (भवि)।

मुव्वह देखो उव्वह = उद + वह्। मुव्वहइ (हे २, १४७)।

मुस सक [मुप्] चोरी करना। मुसइ (हे ४, २३६, सार्धं ६२)। भवि मुसिस्सइ (धर्मवि ४)। कर्म मुसिज्जामो (पि ४५५)।

वक्क मुसत (महा)। कवक्क मुसिज्जत, मुसिज्जमाण (सुपा ४५०, कुप्र २४७)।

सक्क मुसिज्जण (स ६६३)।

मुसहि देखो मुसुहि (सम १३७, परह १, १—पत्र ८, उत ३६, १००, परण १—पत्र ३५)।

मुसण न [मोपण] चोरी (सार्धं ६०, धर्मवि ५६)।

मुसल पुन [मुसल] १ मूसल या मूसर, एक प्रकार की मोटी लकड़ी जिससे चावल आदि अन्न कूटे जाते हैं (औप, उवा, पड्, हे १, ११३)। २ मान-विशेष (सम ६८)। ३ धर पु [वर] बलदेव (कुमा)। ४ उह पु [युध] बलदेव (पात्र)।

मुसल वि [दे] मासल, पुट्ट (पड्)।

मुसलि पु [सुमालिन्] बलदेव (दे १, ११८, सण)।

मुसली देखो मोसली (शोधभा १६१)।

मुसह न [दे] मन की आकुलता (दे ६, १३४)।

मुसा अ लो [मुपा] मिय्या, अरुत, झूठ, असत्य भाषण (उवा, पड्, हे १, १३६, कस), 'प्रयाणता मुसं वए' (सूत्र १, १, ३, ८, उच)। २ 'वाद् देखो वाच (सूत्र १, ३, ४, ८)। ३ 'वादि वि [वादिन्] झूठ बोलनेवाला (परह १, २, प्राचा २, ४, १,

८)। ४ 'वाय पुं [वाद] झूठ बोलना, असत्य भाषण (सम १०, भग, कस)।

मुसाविअ वि [मोषित] चुराया हुआ, चोरी कराया हुआ (शोध २६० टी)।

मुसिय वि [मुषित] चुराया हुआ (सुपा २२०)।

मुसुहि पुत्री [दे] १ प्रहरण-विशेष, शत्रु-विशेष (औप)। २ वनस्पति-विशेष (उत ३६, १००, सुख ३६, १००)।

मुसुमूर सक [भञ्ज्] भागना, तोडना।

मुसुमूरइ (हे ४, १०६)। हेक्क 'तेसि च केसमवि मुसुसु[?सुमू]रिउमसमत्थो' (सम्मत्त १२३)।

मुसुमूरण न [भञ्जन] तोडना, खण्डन (सम्मत्त १८७)।

मुसुमूराविअ वि [भञ्जित] भंगया हुआ (सम्मत्त ३०)।

मुसुमूरिअ वि [भग्न] भंगा हुआ (पात्र, कुमा, सण)।

मुह देखो मुह्क, 'इय मा मुहसु मण्णए' (जीवा १०)। सक्क मुहिअ (पिंग)। कवक्क मुहिज्जत (से ११, १००)।

मुह न [मुख] १ मुँह, वदन (पात्र, हे ३, १३४, कुमा, प्राप् १६)। २ अग्र भाग (सुज ४)। ३ उपाय (उत २५, १६, सुख २५, १६)। ४ द्वार, दरवाजा। ५ आरम्भ। ६ नाटक आदि का सन्धि-विशेष। ७ नाटक आदि का शब्द-विशेष। ८ आद्य, प्रथम। ९ प्रधान, मुख्य। १० शब्द, आवाज। ११ नाटक। १२ वेद-शास्त्र (प्राप्र, हे १, १८७)। १३ प्रवेश (निचू ११)। १४ पु वृक्ष-विशेष, बडहल का गाछ (सुज १०, ८)। १५ णतग, णतय न [नन्तर] मुख-वज्रिका (शोधभा १५८, पव २)। १६ तूरय न [तूर्य] मुँह से वजाया जाता वाद्य (भग)। १७ वोचणिया लो [वोचणिका] मुँह धोने की सामग्री, दतवन आदि, 'मुहवोचणिया खिप्प उव्वणमेहि' (उप ६४८ टी)। १८ पत्ती लो [पत्ती] मुख-वज्रिका (उवा, शोध ६६६, द्र ५८)। १९ पुत्तिया, पोत्तिया, पोत्ती लो [पोत्तिका] मुख-वज्रिका, बोलते समय मुँह के आगे रखने का वज्र छण्ड (सवोष ५, विपा १, १, पव

१२७)। २० फुल न [फुल] १ बडहल का फूल। २ चित्रा-नक्षत्र का सस्थान (सुज १०, ८)। २१ भड्डग न [भाण्डक] मुखाभरण (औप)। २२ मगलिय, मगलीअ वि [माङ्गलिक] मुँह से पर-प्रशसा करनेवाला, खुशामदी (कप्प, औप, सूत्र १, ७, २५)। २३ मक्कडा, मक्कडिया लो [मक्कटा, टिका] गला पकड कर मुँह को मोडना, मुख-वज्रीकरण (सुर १२, ६७, राया १, ८—पत्र १४४)। २४ वत वि [वत्] मुँहवाला (भवि)। २५ वड पु [पट] मुँह के आगे रखने का वज्र (से २, २२, १३, ५६)। २६ वडण न [पतन] मुँह से गिरना (दे ६, १३६)। २७ वण पु [वण] प्रशसा, खुशामद (निचू ११)। २८ वास पु [वास] भोजन के अनन्तर खाया जाता पान, दूध आदि मुँह को सुगन्धी बनानेवाला पदार्थ (उवा ४२, उर ८, ५)। २९ वीणिया लो [वीणिका] मुँह से निकल शब्द करना, मुँह से वाद्य का शब्द करना (निचू ५)। ३० मुहइ देखो मुहल। ३१ असय न [अशय] एक नगर (ती १५)।

मुहत्थडी लो [दे] मुँह से गिरना (दे ६, १३६)।

मुहर देखो मुहल = मुखर (सुपा २२८)।

मुहरिय वि [मुखरित] वाचाल बना हुआ, आवाज करता (सुर ३, ५४)।

मुहरोमराइ लो [दे] ध्रू, भौं (दे ६, १३६, षड्, १७३)।

मुहल न [दे] मुख, मुँह (दे ६, १३४, षड्)।

मुहल वि [मुखर] १ वाचाट, बकवादी (गा ५७८, सुर ३, १८, सुपा ४)। २ पु. काक, कौआ। ३ शख (हे १, २५४, प्राप्र)। ४ रव पु [रव] तुमुल, कोलाहल (पात्र)।

मुहा अ लो [मुधा] व्यर्थ, निरर्थक (पात्र, सुर ३, १, धर्मस ११३२, आ २८, प्राप् ६), 'मुहाइ हारिंति अण्णाए' (सवोष ४६)। ५ जीवि वि [जीविन्] भिक्षा पर निर्वाह करनेवाला (उत २५, २८)।

मुहिअ न [दे] मुफ्त, बिना मूल्य, मुफ्त में करना (दे ६, १३४)।

मुहिआ लो [दे] मु[धका] ऊपर देखो (दे ६, १३४, कुमा, पात्र), 'ति सब्बेवि ह कुमरस्स

मसुयाहि माउयाहि उवचोहियाइ (एया १, ६—पत्र १५८)।

माउआपय न [माउकापड] मूलाक्षर, 'घ' से 'ह' तक के अक्षर (दसनि १, ८)।

माउक वि [मृदु, °क] कोमल, कुमार (हे १, १२७, २, ६६, कुमा)।

माउक न [मृदुत्व] कोमलता (हे १, १२७, २, २, कुमा)।

माउचा खी [दे माउवसु] देखो माउ-च्छा (पड)।

माउचा खी [दे] सखी, सहेली (पड)।

माउच्छ वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२६)।

माउत्त } देखो माउक = मृदुत्व (कुमा, हे
माउत्तण } २, २, पड)।

माउल पु [मातुल] माँ का भाई, मामा (सुर ३, ८१, २भा, महा)।

माउलिअ देखो मउलिअ (से ११, ६१)।

माउलिग देखो माहुलिग (राज)।

माउलिगा } खी [मातुलिङ्गा, °ङ्गी] बीजौरे
माउलिगी } का गच्छ (पण १—पत्र ३२, पत्र ४२, ६)।

माउलुग देखो माहुलिग (हे १, २१४, अनु)।

मागदिअ पु [माकन्दिक] माकन्दिकपुत्र नामक एक जैन मुनि (भग १८—१ टी)। °पुत्त पु [°पुत्र] वही अर्थ (भग १८, ३)।

मागसीसी खी [मागशीर्षी] १ भ्रगहन मास की पूर्णिमा। २ भ्रगहन की अमावास्या (इक)।

मागह } वि [मागध, °क] १ मगध-
मागहय } देशीय, मगध देश में उत्पन्न, मगध देश का, मगध सवन्धी (ओष ७१३, विसे १४६६, पत्र ६१, एया १, ८, पत्र ६६, ५५)। २ पु स्तुति-पाठक, वन्दी, चारण (पात्र, औप)। °भासा खी [°भाषा] देखो मागहिआ का पहला अर्थ (राज)।

मागहिआ खी [मागधिका] १ मगध देश की भाषा, प्रकृत भाषा का एक भेद। २ कला-विशेष (औप)। ३ छन्द-विशेष (सुख २, ४५, अजि ४)।

माघवई खी [माघवती] सातवी नरक-भूमि (पत्र १४३, इक, ठा ७—पत्र ३८८)।

माघवा } [माघवा, °वी] ऊपर देखो, 'मघव
माघवी } ति माघव ति य पुढवीए नामवेयाइ (जीवस १२, इक)।

माज्जार देखो मज्जार (सक्षि २)।

माडविअ पु [माडम्बिक] १ 'मडब' का अधिपति (एया १, १, औप, कप्प)। २ प्रत्यन्त—सीमा-प्रान्त का राजा (पण १, ५—पत्र ६४)।

माडविय वि [माडम्बिक] चित्र मडप का अध्यक्ष (राय १४१)।

माडिअ न [दे] गृह घर (दे ६, १२८)।

माठर पुं [माठर] १ सौधमैन्द्र के रथ सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०३, इक)। २ न गोत्र-विशेष (कप्प)। ३ शास्त्र विशेष (एदि)।

माठर पुंखी [माठर] माठर-गोत्र में उत्पन्न (एदि ४६)।

माठरी खी [माठरी] वनस्पति-विशेष (पण १—पत्र ३६)।

माठिअ वि [माठित] सन्नाह युक्त, वर्मित (कुमा)।

माठी खी [माठी] कवच, वर्म, वस्त्र (दे ६, १२८ टी, पण १, ३—पत्र ४४, पात्र, से १२, ६२)।

माण सक [मानय्] १ सम्मान करना, आदर करना। २ अनुभव करना। माणइ, माणइ, माणति, माणमि (हे १, २२८, महा, कुमा, सिरि ६६)। वक्क माणत, माणेमाण (सुर २, १८२, एया १, १—पत्र ३३)। कवक्क माणिज्जांत (गा ३२०)। हेक्क माणिड, माणेड (महा, कुमा)। क माणणिज्ज, माणणीअ माणियव्व (उव, सुर १२, १६५, अजि १०७, उप १०३१ टी), 'जया य माणिमो होइ पच्छा होइ अ-माणिमो' (दसह १, ५)।

माण पुन [मान] १ गर्व, अहंकार, अस्मान, 'मड्ढदीक्यमाणिणमाणो' (कुमा), 'पुव्व विवुहसमक्ख युवणो एयत्स खडिय माण' (सम्मत ११६)। २ मान, परिमाण। ३ नापने का साधन, वाट—वटखरा मादि (अणु,

कप्प, जो ३०, आ १४)। ४ प्रमाण, सबूत (विसे ६४६, चर्मसं ५२५)। ५ आदर, सत्कार (एया १, १, कप्प)। ६ पु एक अर्थ-पुन (सुपा ५४५)। °इंत, °इत्त, °इल्ल वि [°वत्] मान-वाला (पड, हे २, १५६, हेका ७३; वि ५६५) खी. °त्ता, °त्ती (कुमा, गडड)। °तुग पु [°तुङ्ग] एक प्राचीन जैन कवि (नमि २१)। °वई खी [°वती] १ मानवाली खी (से १०, ६६)। २ रावण की एक पत्नी (पत्र ७४, ११)। °संघ न [°सघ] एक विद्याधर नगर (इक)। °वाइ वि [°वादिन्] अहंकारी (आचा)।

माण वि [मान] मान-सवन्धी, मान का, 'कोहाए माणाए मायाए' (पडि)।

माण न [दे] परिमाण-विशेष, दस शेर का नाप, गुजराती में 'माणु' (उप १५४)।

माणसि वि [दे] १ मायावी, कपटी (दे ६, १४०, पड)। २ खी चन्द्र-वधू (दे ६, १४७)।

माणसि देखो मणसि (कात्र १६६, सक्षि १७, पड)।

माणण न [मानन] १ आदर, सत्कार (आचा)। २ मानना (रण ८४)। ३ अनुभव। ४ सुख का अनुभव, 'सुहसमाणणे' (अजि ३१)।

माणणा खी [मानना] ऊपर देखो (पण २, १, रण ८४)।

माणय देखो माण = (दे) (सुपा ३५८)।

माणव पु [मानव] १ मनुष्य, मर्त्य (पात्र, सुपा २४३)। २ भगवात् महावीर का एक गण (ठा ६—पत्र ४५१, कप्प)।

माणववा } पु [मानवक] १ एक निर्ध,
माणवय } अर्थ शक्ती की पूर्ति करनेवाला निवि (उप ६८६ टी, ठा ६—पत्र ४४६, इक)। २ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष, एक महाग्रह (ठा २, ३, सुख २०)। ३ सीधम देवताक का एक वैद्य-स्तम्भ (सम ६३)।

माणवी खी [मानवी] एक विद्या-देवी (सति ६)।

माणस न [मानस] १ सरोवर-विशेष (पण १, ४, औप, महा, कुमा)। २ मन, प्रान्त-करण (पात्र, कुमा)। ३ वि. मन सवन्धी,

मेअ वि [मेय] १ जानते योग्य, प्रमेय, पदाब्, वस्तु (उत्त १८, २३) । २ नापने योग्य (पड्) । ३ वि [ंज्ञ] पदार्थ-ज्ञाता (उत्त १८, २३, सुख १८, २३) ।

मेअ पुन [मेदस्] शरीर-स्थित घातु-विशेष, चर्बी (तदु ३८, णाय १, १२—पत्र १७३, गजड) ।

मेअज्ज न [दे] धान्य, अन्न (दे ६, १३८) ।

मेअज्ज पु [मेदार्य] मेदार्य गोत्र में उत्पन्न (सूत्र २, ७, ५) ।

मेअज्ज पु [मेतार्य] १ भगवान् महावीर का वसवा गणधर (सम १६) । २ एक जैन महर्षि (उव, सुपा ४०६, विवे ४३) ।

मेअय वि [मेचक] काला, कृष्ण-चर्चा (गजड ३३६) ।

मेअर वि [दे] असहन, असहिष्णु (दे ६, १३८) ।

मेअल पुं [मेकल] पर्वत-विशेष । १ कन्ना छो [ं कन्या] नर्मदा नदी (पात्र) ।

मेअवाडय पुन [मेदपाटक] एक भारतीय देश, मेवाड, एणाव दाहविश्र सन्नलपि मेन्न-वाडय हम्मोरीवीरोहि (हम्मोरी २७) ।

मेइणी } छो [मेदिनी] १ पृथिवी, धरती
मेइणी } (सुपा ३२, कुमा, प्रासू ५२) । २
चारुजालिन (सुपा १६, सम्मत्त १७२) । ३ नाह
पु [नाथ] राजा (उप पृ १८६, सुपा
१०८) । ४ पइ पु [पति] १ राजा । २
चारुजाल, 'जो विबुहपणयचरणोवि गोत्तमेई
न, मेइणपईवि न हु मायगो' (सुपा ३२) ।
५ सामि पु [ंस्वामिन्] राजा (उप
७२८ टी) ।

मेइणीसर पु [मेइनीइवर] राजा (उप
७२८ टी) ।

मेठ पु [दे] हस्तिक, महावत (दे ६,
१३८) । देखो मिठ ।

मेठी छो [दे] मेंटी, मेपी गबरिया (दे ६, १३८) ।

मेठ पृथी [मेठ्] मेंडा, मेप, भेड, गाडर (ठा
८, २) । छो. ० डी (दे ६, १३८) । ३ सुह पु
[सुस] १ एक अन्तर्द्वीप । २ अन्तर्द्वीप-
विशेष में रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४,
२—पत्र २२६, इक) । ३ विसाणा छो

[ंविषाणा] वनस्पति-विशेष, मेढाशिगी
(ठा ४, १—पत्र १८५) । देखो मिठ ।

मेखला देखो मेहला (राज) ।

मेज्ज न [मेय] मान, तौल, बाट, वटखरा,
जिससे मापा जाय वह (अणु १५४) ।

मेघ देखो मेह (कुमा, सुपा २०१) ।

० मालिणी छो [ंमालिनी] नन्दन वन के
शिखर पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी
(ठा ८—पत्र ४३७) । ० वई छो [ंवती]
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७) ।

० वाहण पु [ंवाहन] एक विद्याधर राज-
कुमार (पउम ५, ६५) ।

मेघंकरा छो [मेघंकरा] एक दिक्कुमारी देवी
(ठा ८—पत्र ४३७) ।

मेच्छ देखो मिच्छ = भ्लेच्छ (श्रीघ २४,
श्रीप, उप ७२८ टी, मुद्रा २६७) ।

मेज्ज देखो मेअ = मेय (पड्, णाय १, ८—
पत्र १३२, आ १८) ।

मेज्ज देखो मिज्ज (महा ४, ११, ४०,
२४) ।

मेट देखो मिट । प्रयो मेटाव (पिंग) ।

मेडंभ पु [दे] मृग-तन्तु (दे ६, १३६) ।

मेडय पुं [दे] मजला, तला, गुजराती मे
'मेडो', 'तस्य य सयण्डाण सचारिमकट्टुमेड-
यस्सुवरि' (सुपा ३५१) ।

मेड्ड देखो मेड (उप पृ २२४) ।

मेठ पु [दे] वणिक-सहाय, वणिक को मदद
करनेवाला (दे ६, १३८) ।

मेठरु पु [दे] काष्ठ-विशेष, काष्ठ का छोटा
डडा (परह १, १—पत्र ८) ।

मेठि पुं [मेथि] पशुवन्धन-काष्ठ, खले के बीच
का काष्ठ, जहाँ पशु को बाँध कर धान्य-मर्दन
किया जाता है (हे १, २१५, गच्छ १, ८,
णाय १, १—पत्र ११) । २ आघार,
स्तम्भ, 'सयस वि य ए कुडुवस मेठी
पमाण आहारे आलवण चक्खू मेठीमूए'
(उवा), 'सुत्तथविक लक्खणजुतो गच्छस
मेठिमूतो अ' (था १, कुप्र २६६, सवीध
२४) । ३ मूअ वि [ंभूत] १ आघार-सदृश,
आघार-भूत (भग) । २ नाभि-भूत, मध्य में
स्थित (कुमा) ।

मेणआ } छो [मेनका] १ हिमालय की पत्नी ।
मेणका } २ स्वर्ग की एक वेश्या (अभि ४२,
नाट—विक्र ४७, पिंग) ।

मेत्त न [मात्र] १ साकल्य, सपूर्णता । २
अवधारण, 'भोग्रणमेत्त' (हे १, ८१) ।

मेत्तल [दे] देखो मित्तल (सुर १२, १५२) ।

मेत्ती छो [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (से १, ६,
गा २७२, स ७१६, उव) ।

मेधुणिया देखो मेहुणिया (निच १) ।

मेर (अप) वि [मदीय] मेरा (प्राक् १२०,
भवि) ।

मेरा पुं [मेरक, मैरेयक] १ तृतीय प्रति-
वासुदेव राजा (पउम ५, १५६) । २ पुन.
मद्य-विशेष (उवा, विपा १, २—पत्र २७) ।
३ वनस्पति का त्वचा-रहित टुकडा, 'उच्छु-
मेरं' (आचा २, १, ८—१०) ।

मेरा छो [दे. मिरा] मर्यादा (दे ६, ११३,
पात्र, कुप्र ३३५, अज्म ६७, सण, हे १,
८७, कुमा, श्रीप) ।

मेरा छो [मेरा] १ तुण-विशेष, मुञ्ज की
सलाई (परह २, ३—पत्र १२३) । २ दशवें
चक्रवर्ती की माता (सम १५२) ।

मेरु पु [मेरु] १ पर्वत-विशेष (उव, प्रासू
१५४) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।

मेरु पु [मेरु] पर्वत, कोई भी पहाड (आचा
२, १०, २) ।

मेल सक [मेलय्] १ मिलाना । २ इकट्ठा
करना । मेलइ, मेलति (भवि, पि ४८६) ।
संछ मेलित्ता, मेलिय (पि ४८६, महा) ।

मेल पु [मेल] मेल, मिलाप, सगम, सयोग,
मिलन (सूत्रनि १५, दे ६, ५२, साधं १०६),
'विद्धो पियमेलगो मए सुविणो' (कुप्र २१०) ।

मेलण न [मेलन] ऊपर देखो (प्रासू ३५) ।

मेलय पु [मेलक] १ सन्ध, सयोग (कुमा) ।
२ मेला, जन-समूह का एकत्रित होना (दे ७,
८६, वि ८६) ।

मेलय सक [मेलय्, मिश्रय्] मिलाना,
मिश्रण करना । मेलवइ (हे ४, २८) । भवि
मेलवेहिस्सि (पि ५२२) । सक मेलवि (अप)
(हे ४, ४२६) ।

मेलाइयव्य नीचे देखो ।

मायहिय (अप) देखो मागहिया (भवि) ।

माया = देखो माइ = मातृ, 'मायाइ अहं भण्णो' (धर्मवि ५, पात्र, विपा १, ६, पङ्) ।
°पिइ, °पिति पुंन [°पित्] मां-वाप (पि ३६१, स १८४) । °मह पु [°मह] मां का वाप (सुर ११, ४६, सुपा ३८४) ।
°वित्त देखो °पिइ, 'दुहियाण होइ सरण मायावित्त महिलियाण' (पउम १७, २१), 'तेणव देवेण तहि मायावित्ताइ रोवमाणाइ' (सुर ६, २३५, १, २३६, धर्मवि २१, महा) ।

माया देखो मत्ता = मात्रा, 'नो अइमायाए पाणभोयण आहारेत्ता (उत्त १६, ८, औप, उवा कस) ।

माया स्त्री [माया] १ कपट, छल, शाब्द, बोला (भग, कुमा, ठा ३, ४, पात्र, प्रासू १७५) । २ इन्द्रजाल (दे ३, ५३, उप ८२३) । ३ मन्त्राक्षर-विशेष, 'ह्रीं' अक्षर (सिरि १६७) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) ।
°गार पुं [°नर] पुरुष-वेश-धारी स्त्री-आदि (धर्मसं १२७८) । °वीय न [°बीज] 'ह्रीं' अक्षर (सिरि ४०१) । °मोस पुन [°मृषा] कपट-पूर्वक असत्य वचन (शाया १, १, पएह १, २, भग, औप) । °वत्तिअ, °वत्तीय वि [°प्रत्ययिक] कपट से होनेवाला, छल-मूलक (भग, ठा २, १ नव १७) । °वि वि [°विन्] मायायुक्त (पउम ८८, ११) । स्त्री. °विणी (सुपा ६२७) ।

मायि वि [मायिन्] माया-युक्त, मायावी (उवा, पि ४०५) ।

मार सक [मारय्] १ ताडन करना । २ हिंसा करना । मारइ, मारेइ (आवा, कुमा, भग) । भवि. मारेहिंसि (पि ५२८) । कर्म. मारिजइ (उव) । वक्र. मारत, मारैत (अत्त ६२, पउम १०५, ७६) । कवक मारिज्जत (सुपा १५७) । सक्र मारेत्ता (महा), मारि (अप) (हे ४, ४३६) । हेक मारेउ (महा) । क. मारियव्व, मारेयव्व (पउम ११, ४२), मारिण्ज (उप ३५७ टी) ।

मार पु [मार] १ ताडन (सुपा २२६) । २ मरण, मौत (आवा, सूत्र २, २, १७, उप ३०८) । ३ यम, जम (सूत्र १, १, ३,

७) । ४ कामदेव, कंदर्प (उप ७६८ टी) । ५ चौथा नरक का एक नरकावास (ठा ४, ४—पत्र २६५, देवेन्द्र १०) । ६ वि. मारने-वाला (शाया १, १६—पत्र २०२) । °वहू स्त्री [°वधू] रति (सुपा ३०४) ।

मार पु [मार] मणि का एक लक्षण (राय ३०) ।

मारग वि [मारक] मारनेवाला । स्त्री °रिगा (कुप्र २३५) ।

मारण न [मारण] १ ताडन । २ हिंसा (भग, स १२१) ।

मारणअ (अप) वि [मारयित्] मारनेवाला (हे ४, ४४३) ।

मारणतिअ वि [मारणान्तिक्] मरण के अन्त समय का (सप ११, ११६, औप, उवा, कप्प) ।

मारणया } स्त्री [मारणा] मारना (भग, मारणा } पएह १, १, विपा १, १) ।

मारय देखो मारग (उव, सत्रोष ४३) ।

मारा स्त्री [मारा] प्राणि-वध का स्थान, सूना (शाया १, १६—पत्र २०२) ।

मारि स्त्री [मारि] १ रोग-विशेष, मृत्यु-दायक रोग (स २४२) । २ मारण (आवम) । ३ मौत, मृत्यु (उप ३२६) ।

मारि हेको मार = मारय् ।

मारि वि [मारिन्] मारनेवाला (महा) ।

मारिज पु [मारिच] रावण का एक सुभट (पउम ५९, ७) । देखो मारीअ ।

मारिज्जि देखो मारेइ (पउम ८२, २६) ।

मारिय वि [मारित] मारा हुआ (महा) ।

मारिलगा स्त्री [दे] कुत्सित स्त्री (दे ६, १३१) ।

मारिव पुन [दे] गौरव, 'गौरवे मारिवे' (सक्ति ४७) ।

मारिस वि [माइश] मेरे जैसा (कुमा) ।

मारी स्त्री [मारी] देखो मारि (स २४२) ।

मारिअ पु [मारीच] अपवि-विशेष (अभि २४६) । देखो मारिज्जि ।

मारीइ } पु [मारीचि] एक विद्याधर
मारीजि } सामन्त राजा (पउम ८, १३२) ।
२ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २७) ।

मारुअ पुं [मारुत्] १ पवन, वायु (पात्र, सुपा २०४, सुर ३, ४०, १३, १६४; अप १४, महा) । २ हनुमान का पिता (से २, ४४) । °तणय पु [°तनय] हनुमान (से ४४, हे ३, ८७) । °त्य न [°त्थ] अन्न-विशेष, वातान्न (पउम ५६, ६१) ।

मारुअ पि [मारुक] मरु देश का, मरु-सबन्धी, 'एो अमयवल्लरो मारुअम्मि कत्यइ थले होइ' (उप ६८६ टी) ।

मारुइ पुं [मारुति] हनुमान (से १, ३७) ।

माल अक [माल्] १ शोभना । २ वेष्टित होना । क 'अन्विसहस्समालणीय' (शाया १, १—पत्र ३८) ।

माल पु [दे] १ आराम, वगीचा (दे ६, १४६) । २ मन्च, आसन-विशेष (दे ६, १४६, शाया १, १—पत्र ६३, पचा १३, १४) । ३ वि मञ्जु (दे ६, १४६) ।

माल पु [दे माल] १ देश-विशेष (पउम ६८, ६५) । २ घर का उपरि-भाग, तला, मजिल, गुजराती मे 'मालो' (शाया १, ६—पत्र ५७, चेइय ४८१, पचा १३, १४, ठा ३, ४—पत्र १५६) । ३ वनस्पति-विशेष (ज १) ।

माल° देखो माला । °गार वि [°कार] माली (उप ५ १६६) ।

मालइ } स्त्री [मालती] १ लता-विशेष ।
मालई } २ पुष्प-विशेष (पउम ५३, ७६, पात्र, कुमा) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

मालकर पुं [मालकार] वैरोचन बलीन्द्र के हस्ति-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक) ।

मालणीय देखो माल = माल् ।

मालय देखो माल = दे माल (ठा ३, १—पत्र १२३) ।

मालव पु [मालव] १ भारतीय देश-विशेष (इक, उप १४२ टी) । २ मालव देश ना निवासी मनुष्य (पएह १, १—पत्र १४) ।

मालव पु [मालव] म्लेच्छ-विशेष, प्रादमी को उडा ले जानेवाली एक चोर जाति (पव ४) ।

मोअ सक [मुच्] झोवना, त्यागना ।
मोअइ (प्राकृ ७०, ११६) । वक्र मोअत
(सि ८, ६१) ।

मोअ सक [मोचय्] छुडवाना, ध्याग
कराना । मोअइदि (शौ) (नाट—मालवि
४१) । कवक मोइज्जत (गा ६७२) ।

मोअ पुं [मोद] हर्ष, खुशी (खण १५,
महा, भवि) ।

मोअ वि [दे] १ अघिगत । २ पुं चिभट
आदि का वीजकोश (दि ६, १४८) । ३ पुत्र,
पेशाव (सूअ १, ४, २, १२, पिड ४६८,
कस, पमा १५) । ४ पडिमा झी [प्रतिमा]
प्रखवण-विपयक नियम-विशेष (ठा ४, २—
पत्र ६४, औप, वव ६) ।

मोअइ पु [मोचकि] वृक्ष-विशेष, 'सल्लइ-
मोयइमालुयवजलपलामे करजे य' (परण
१—पत्र ३१) ।

मोअग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला (सम
१, पडि, सुपा २३४) ।

मोअग पु [मोदरु] लड्डू, मिशान-विशेष
(अत ६, सुपा ४०६) । देखो मोदअ ।

मोअण न [मोचन] नीचे देखो (स ५७५,
गउड) ।

मोअणा झी [मोचना] १ परित्याग (श्रावक
११५) । २ मुक्ति, छुटकारा (सूअ १, १४,
१८) । ३ छुडवाना, मुक्त कराना (उप
५१०) ।

मोअय देखो मोअग (भग, पउम ११५, ६,
सुपा ४०६, नाट—विक २१) ।

मोआ ली [मोचा] कदली वृक्ष, केला का
गाछ (राज) ।

मोआव सक [मोचय्] छुडवाना । मोआ-
वेमि, मोआवेहि (नाट—शकु २५, मृच्छ
३१६) । भवि मोआवइत्ससि (पि ५२८) ।
कर्न, मोआविज्जइ (कुप्र २६१) । वक्र,
मोआवत (सुपा १८६) ।

मोआवण न [मोचन] छुटकारा कराना
(विरि ६१८, स ४७) ।

मोआविअ } वि [मोचित] छुडवाया हुआ
मोइअ } (पि ५५२, नाट—मृच्छ ८६,
सुर १०, ६, सुपा ४७७, महा, सुर २,
३६, ६, ७८, सुपा २३२, भवि) ।

मोइल पुं [दे] मत्स्य-विशेष (नाट) ।

मोइ देखो मुड = मुण्ड (हे १, ११६,
२०२) ।

मोक पु [मोक] सर्प-केंचुक, साँप का केंचुल ।
मोकल सक [दे] भोजना, गुजराती मे
'मोकलबु', मराठी मे 'मोकलएँ' । मोकल्लइ
(भवि) ।

मोक देखो मुक्क = मुक्त (वड्) ।

मोक्कणिआ } झी [दे] कृष्ण कर्णिका, कमल
मोक्कणी } का काला मध्य भाग (दे ६,
१४०) ।

मोक्कल देखो मोकल, 'नियपियर भणसु
सुमं मोक्कलइ जेण सिग्घपि' (सुपा ६१२) ।

मोक्कल देखो मुक्कल (सुपा ५८०, हे ४,
३६६) ।

मोक्कलिय वि [दे] १ प्रेषित, भेजा हुआ
(सुपा ५२१) । २ विखट (सुपा १४०) ।

मोक्ख देखो मुक्ख = मोक्ष (औप, कुमा,
हे २, १७६, उप २६४ टी, भग, वसु) ।

मोक्ख देखो मुक्ख = मूर्ख (उप ५५५) ।

मोक्ख न [दे] वनस्पति-विशेष (सूअ २,
२, ७) ।

मोक्खण न [मोक्षण] मुक्ति, छुटकारा
(स ४१८, सुर २, १७) ।

मोग्गड पु [दे] व्यन्तर-विशेष (सुपा ४०८) ।
देखो मुग्गड ।

मोग्गर पु [दे] मुकुल, कलिका, वौर (दे ६,
१३६) ।

मोग्गर पु [मुद्गर] मुगरा, मोगरी । २
कमरल का पेड (हे १, ११६, २, ७७) ।

३ पुष्पवृक्ष-विशेष, मोगरा का गाछ (परण
१—पत्र ३२) । ४ देखो मुग्गर । ५ पाणि
पु [पाणि] एक जैन महर्षि (अत १८) ।

मोग्गारिअ वि [दे] संकुचित, मुकुलित (दे
६, १३६ टी) ।

मोग्गालायण } न [मौद्गलायन, 'ल्या']
मोग्गलायण } १ गोत्र-विशेष (इक, ठा ७,
सुज्ज १०, १६) । २ पुत्री उस गोत्र से
उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

मोग्गाह देखो मुग्गाह । मोग्गाहइ (?)
(वाल्वा १४६) ।

मोघ देखो मोह = मोघ, 'मोघमणोरहा'
(परह १, ३—पत्र ५५) ।

मोच देखो मोअ = मोचय् । सक्र मोचिअ,
(अभि ४७) ।

मोच न [दे] अर्घजघी, एक प्रकार का जूतन
(दे ६, १३६) ।

मोच देखो मोअ = (दे) (सूअ १, ४, २,
१२) ।

मोचग देखो मोअग = मोचक (वसु) ।

मोट्टाय अक [रम्] कीडा करना । मोट्टायइ
(हे ४, १६८) ।

मोट्टाइअ न [रत] रति-क्रीडा, रत, मैथुन
(कुमा) ।

मोट्टाइअ न [मोट्टायित] चेट्टा-विशेष, प्रिय-
कथा आदि मे भावना से उत्पन्न चेट्टा (कुमा) ।

मोट्टिम न [दे] बलात्कार (पि २३७) ।
देखो मुट्टिम ।

मोड सक [मोटय्] १ मोडना, टेढा
करना । २ भाँगना । मोडसि (सुर ७, ६) ।
वक्र. मोडत, मोडित, मोडयंत (भवि,
महा, स २५७) । कवक. मोडिज्जमाण
(उप पृ ३४) । सक्र. मोडेड (सुपा १३८) ।

मोड पु [दे] चूट, लट (दे ६, ११७) ।

मोडग वि [मोटक] मोडनेवाला (परह १,
४—पत्र ७२) ।

मोडण न [मोटन] मोडन, मोडना (वज्ज
३८) ।

मोडणा झी [मोटना] ऊपर देखा (परह १,
३—पत्र ५३) ।

मोडिअ वि [मोटित] १ भग्न, भौंगा हुआ
(गा ५४६, खाय्या १, ६—पत्र १५७,
परह १, ३—पत्र ५३) । २ आत्रेडित,
मोडा हुआ (विपा १, ६—पत्र ६८, स
३३५) ।

मोड पु [मोड] एक वणिक-कुल (कुप्र २०) ।

मोडेरय न [मोडेरक] नगर-विशेष (दे ६,
१०२, ती ७) ।

मोण न [मौन] मुनिपन, चाखी का समय,
चुप्पी (औप, सुपा २३७, महा) । १ चर वि
[चर] मौन कतवाला, चाखी का समय-
वाला; वाचयम (ठा ५, १—पत्र २६६)

माहव पुं [माधव] १ श्रीकृष्ण, नारायण (गा ४४३, वज्रा १३०)। २ वसन्त ऋतु। ३ वैशाख मास (गा ७७७, खिम ५३)। ४ पण्डिणी स्त्री [प्रणयिनी] लक्ष्मी (स ५२३)।

माहविआ स्त्री [माधविका] नीचे देखो (पात्र)।

माहवी स्त्री [माधवी] १ लता-विशेष (गा ३२२, अमि १६६, स्वप्न ३६)। २ एक राज-पत्नी (पउम ६, २२६, २०, १८४)।

माहारयण न [दे] १ वस्त्र, कपडा। २ वस्त्र-विशेष (दे ६, १३२)।

माहिंद पु [माहेन्द्र] १ एक देव-लोक (सम ८)। २ एक इन्द्र, माहेन्द्र देवलोक का स्वामी (ठा २, ३—पत्र ८५)। ३ पुर-विशेष, 'माहिन्दरो जाओ' (सुपा ६०६)। ४ दिन का एक मुहूर्त (सम ५१)। ५ वि. महेंद्र सम्बन्धी (पउम ५५, १६)।

माहिदफल न [माहेन्द्रफल] इन्द्रपत्र, कौरैया का बीज (उत्तमि ३)।

माहिल पु [दे] महियो-पाल, भैंस चरानेवाला (दे ६, १३०)।

माहिवाय पु [दे] १ शिशिर पवन (दे ६, १३१)। २ माघ का पवन (षड्)।

माहिस्त्री देखो महिस्त्री (कम्प)।

माही स्त्री [माघी] १ माघ मास की पूर्णिमा। २ माघ की अमावस्या (सुज १०, ६)।

माहुर वि [माथुर] मथुरा का (भक्त १४५)।

माहुर न [दे] शाक, तरकारी (दे ६, १३०)।

माहुर } वि [माथुर, क] १ मथुर रस-
साहुरय } वाला। २ आम्ब रस से मिल
रसवाला (उवा)।

माहुरिअ न [माथुर्य] मथुरता (प्राक् १६)।

माहुलिंग पु [मातुलिङ्ग] १ बीजपूर वृक्ष, बीजोरानीवृ का पेड़ (हे १, २४४, चंड)। २ न. बीजौरे का फल (पड्, कुमा)।

माहेसर वि [माहेश्वर] १ महेश्वर-भक्त (सिदि ४८)। २ न. नगर-विशेष (पउम १०, ३४)।

माहेसरी स्त्री [माहेश्वरी] १ लिपि-विशेष (सम ३५)। २ नगरी-विशेष (राज)।

मि (अप) देखो अचि—अपि (अचि)।

मिं स्त्री [मृत्] मिट्टी, मट्टी, 'जह मिल्ले-
वावगमादलाहुणोवत्समेव गइभावो' (विसे ३१४२)। १ पिण्ड पु [पिण्ड] मिट्टी का पिंडा (अमि २००)। २ मय वि [मय] मिट्टी का बना हुआ (उप २४२, पिंड ३३४, सुपा २७०)।

मिअ देखो मय = मृग, 'सर्वणिण्यिदोसेणं मिअो मओ वाहवाणेण' (सुर ८, १४२, उत १, ५, परह १, १, सम ६०, रभा, ठा ४, २, पि ५४)। १ चक्र न [चक्र] विद्या-विशेष, ग्राम-प्रवेश आदि में मृगों के दर्शन आदि से शुभाशुभ फल जानने की विद्या (सूत्र २, २, २७)। २ णअणी, ३ नयणा स्त्री [नयना] देखो मय च्छी (नाट, सुर ६, १५३)। ४ मय पु [मय] कस्तूरी (रभा ३५)। ५ रिड पु [रिड] सिंह (सुपा ५७१)। ६ वाहन पु [वाहन] भरतक्षेत्र के एक शायी तीर्थकर (सम १५३)।

मिअ पु [मृग] हरिण के आकार का पशु-विशेष, जो हरिण से छोटा और जिसका मुच्छ लम्बा होता है। १ लोमिअ वि [लोमिक] उसके बालों से बना हुआ (अणु ३५)।

मिअ देखो मिअ = मिअ (प्राप्र)।

मिअ वि [दे] अलकृत, विमूषित (पड्)।

मिअ वि [मित] मानोपेत, परिमित (उत १६, ८, सम १५२, कम्प)। २ थोडा, अल्प, 'मिअ तुच्छ' (पात्र)। ३ वाइ वि [वादिन्] आत्मा आदि पदार्थों को परिमित माननेवाला (ठा ८—पत्र ४२७)।

मिअ देखो मिअ = इव (गा २०६ अ, नाट)।

मिअ देखो मिआ। १ ग्राम पु [ग्राम] ग्राम-विशेष (विपा १, १)।

मिअआ स्त्री [मृगया] शिकार (नाट—शकु २७)।

मिअक पु [मृगाक] १ चन्द्र, चाँद (हे १, १३०, प्राप्र, कुमा, काप्र १६४)। २ चन्द्र का विमान (सुज २०)। ३ इक्ष्वाकु बरा का एक राजा (पउम ५, ८)। ४ मणि पु [मणि] चन्द्रकान्त मणि (कम्प)।

मिअंग देखो मयंग = मृदग (कम्प)।

मिअसिर देखो मगसिर (पि ५४)।

मिआ स्त्री [मृगा] १ राजा विजय की पत्नी (विपा १, १)। २ राजा बलभद्र की पत्नी (उत १६, १)। ३ उत, पुत पु [पुत] १ राजा विजय का एक पुत्र (विपा १, १, कर्म १५)। २ राजा बलभद्र का एक पुत्र, जिसका दूसरा नाम बलधी था (उत १६, २)। ३ चई स्त्री [वती] १ प्रथम वासुदेव की माता का नाम (सम १५२)। २ राजा शतानीक की पटरानी का नाम (विपा १, ५)।

मिइ स्त्री [मिति] १ मान, परिमाण। २ हृद, अवि, 'कि दुकरकुवामाण न मिई जमुनायततोए' (धर्मवि १४३)।

मिइ देखो मिउ = मृत् (धर्मस ५५८)।

मिइग देखो मयग = मृदग (हे १, १३७, कुमा)।

मिइद देखो मइद = मृगेन्द्र (अमि २४२)।

मिउ स्त्री [मृद] मिट्टी, मट्टी, 'मिउदडवक-
चीवरसाम्गीवसा कुलासुव' (सम्मत २२४), 'मिउपिडो दग्धडो सुसावगो तह म दग्धसाह
त्ति' (उप २५४ टी)।

मिउ वि [मृद] कोमल, सुकुमार (श्रीप, कुमा, सण)।

मिउ वि [मृद] मनोज, सुन्दर, 'मिउमद्व-
सपन्ने' (एदि ५२)।

मिउण न [दे] मोचना, निर्मूलन (दे ३, ३०)।

मिउं स्त्री [मृजा] १ शरीर-स्थित धानु-

मिजा } विशेष, हाड के बीच का अणव-

मिजिय } विशेष (परह १, १—पत्र ८, महा,
उवा, श्रीप)। २ मध्यवर्ती मध्यम, 'पिण्ड-
मिजिया इवा' (पण्य १७—पत्र ५२६)।

मिठ } पु [दे] हन्तिक, लयी या महान्त

मिठिल } (उप १२८ टी, सुप्र ३६८, महा,
भक्त ७६, धर्मवि ८१, २३५, मन १०,
उप १३०)। देखो मेंठ।

मिठ } पु [मिठ] १ मंग, भंग, मंग, गाठर

मिठय } (वि ३०६ टी, न पु २०५, सुप्र
१६२), ते य दरा मिठया ते य' (धर्मवि

मोअ सक [मुच्] छोडना, त्यागना ।
मोअइ (आक ७०, ११६) । वक मोअत
(से न, ६१) ।

मोअ सक [मोच्य] छुडवाना, त्याग
कराना । मोअइदि (शौ) (नाट—मालवि
४१) । कवक मोइज्जत (गा ६७२) ।

मोअ पु [मोद] हर्ष, खुशी (रयण १५,
महा, भवि) ।

मोअ वि [दे] १ अचिगत । २ पु. चिभं
आदि का वीजकोश (दे ६, १४८) । ३ मूत्र,
पेशाव (सूअ १, ४, २, १२, पिंड ४६८,
कस, पना १५) । ४ पडिमा स्त्री [प्रतिमा]
प्रखण-विषयक नियम-विशेष (ठा ४, २—
पत्र ६४, औप, वव ६) ।

मोअइ पु [मोचकि] वृक्ष-विशेष, 'सल्लइ-
मोयइमालुयवज्जलपलासे करजे य' (परण
१—पत्र ३१) ।

मोअग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला (सम
१, पडि, सुपा २३४) ।

मोअग पु [मोदरु] लड्डू, मिष्टान्न-विशेष
(अत ६, सुपा ४०६) । देखो मोदअ ।

मोअण न [मोचन] नीचे देखो (स ५७५,
गडड) ।

मोअणा स्त्री [मोचना] १ परित्याग (श्रावक
११५) । २ मुक्ति, छुटकारा (सूअ १, १४,
१८) । ३ छुडवाना, मुक्त कराना (उप
५१०) ।

मोअय देखो मोअग (भग, पचम ११५, ६,
सुपा ४०६, नाट—विक २१) ।

मोआ स्त्री [मोचा] कदली वृक्ष, केला का
गाछ (राज) ।

मोआव सक [मोच्य] छुडवाना । मोआ-
वेमि, मोआवेहि (नाट—शकु २५, मृच्छ
३१६) । भवि मोआवइससि (पि ५२८) ।
कर्म, मोयाविज्जइ (कुप्र २६१) । वक.
मोयावत (सुपा १८६) ।

मोआवण न [मोचन] छुटकारा कराना
(सिदि ६१८, स ४७) ।

मोआविअ } वि [मोचित] छुडवाया हुआ
मोइअ } (पि ५५२, नाट—मृच्छ ८६,
सुर १०, ६, सुपा ८७७, महा, सुर २,
३६, ६, ७८, सुपा २३२, भवि) ।

मोइल पुं [दे] मत्स्य-विशेष (नाट) ।

मोड देखो मुड = मुण्ड (हे १, ११६,
२०२) ।

मोक पु [मोक] सर्प-कंचुक, साँप का कंचुल ।

मोकल सक [दे] भेजना, गुजराती मे
'मोकलवु', मराठी मे 'मोकलरौ' । मोकलइ
(भवि) ।

मोक्क देखो मुक्क = मुक्त (षड) ।

मोक्कणिआ } स्त्री [दे] कृष्ण कर्णिका, कमल
मोक्कणी } का काला मध्य भाग (दे ६,
१४०) ।

मोक्कल देखो मोकल, 'नियपियरं भणसु
तुमं मोक्कलइ जेण सिग्घपि' (सुपा ६१२) ।

मोक्कल देखो मुक्कल (सुपा ५८०, हे ४,
३६६) ।

मोक्कलिय वि [दे] १ प्रेषित, भेजा हुआ
(सुपा ५२१) । २ विच्छेद (सुपा १४०) ।

मोक्ख देखो मुक्ख = मोक्ष (औप, कुमा,
हे २, १७६, उप २६४ टी, भग, वसु) ।

मोक्ख देखो मुक्ख = मूर्ख (उप ५५५) ।

मोक्ख न [दे] वनस्पति-विशेष (सूअ २,
२, ७) ।

मोक्खण न [मोक्षण] मुक्ति, छुटकारा
(स ४१८, सुर २, १७) ।

मोगगड पु [दे] व्यन्तर-विशेष (सुपा ४०८)
देखो मुगगड ।

मोगगर पु [दे] मुकुल, कलिका, बौर (दे ६,
१३६) ।

मोगगर पु [मुद्गर] मुगरा, मोगरी । २
कमरख का पेड (हे १, ११६, २, ७७) ।

३ पुष्पवृक्ष-विशेष, मोगरा का गाछ (परण
१—पत्र ३२) । ४ देखो मुगगर । ५ पाणि
पु [पाणि] एक जैन महर्षि (अत १८) ।

मोगगरिअ वि [दे] संकुचित, मुकुलित (दे
६, १३६ टी) ।

मोगगलायण } न [मौद्गलायन, 'ल्या']
मोगगलायण } १ गोत्र-विशेष (इक, ठा ७,
सुज्ज १०, १६) । २ पुत्री, उस गोत्र से
उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) ।

मोगगाह देखो मुगगाह । मोगगाहइ (?)
(धात्वा १४६) ।

मोघ देखो मोह = मोघ, 'मोघमणोरहा'
(परह १, ३—पत्र ५५) ।

मोच देखो मोअ = मोच्य । सक मोचिअ,
(अभि ४७) ।

मोच न [दे] अर्धजघी, एक प्रकार का जूत
(दे ६, १३६) ।

मोच देखो मोअ = (दे) (सूअ १, ४, २,
१२) ।

मोचग देखो मोअग = मोचक (वसु) ।

मोट्टाय अक [रम्] क्रीडा करना । मोट्टायइ-
(हे ४, १६८) ।

मोट्टाइअ न [रत] रति-क्रीडा, रत, मैथुन
(कुमा) ।

मोट्टाइअ न [मोट्टायित] चेष्टा-विशेष, प्रिय-
कथा आदि मे भावना से उत्पन्न चेष्टा (कुमा) ।

मोट्टिम न [दे] वलाकार (पि २३७) ।
देखो मुट्टिम ।

मोड सक [मोट्य] १ मोडना, टेढा
करना । २ भाँगना । मोडसि (सुर ७, ६) ।

वक. मोडत, मोडित, मोडयंत (भवि,
महा, स २५७) । कवक. मोडिज्जमाण
(उप ५ ३४) । सक. मोडेड (सुपा १३८) ।

मोड पु [दे] छूट, लट (दे ६, ११७) ।

मोडग वि [मोटक] मोडनेवाला (परह १,
४—पत्र ७२) ।

मोडण न [मोटन] मोडन, मोडना (वज्ज
३८) ।

मोडणा स्त्री [मोटना] ऊपर देखो (परह १,
३—पत्र ५३) ।

मोडिअ वि [मोटित] १ भग्न, भाँगा हुआ
(गा ५४६, णाया १, ६—पत्र १५७,
परह १, ३—पत्र ५३) । २ आत्रोडित,
मोडा हुआ (विपा १, ६—पत्र ६८, स
३३५) ।

मोड पु [मोड] एक वणिक-कुल (कुप्र २०) ।

मोडेरय न [मोडेरक] नगर-विशेष (दे ६,
१०२, ती ७) ।

मोण न [मौन] मुनिपन, वाणी का समय,
चुप्पी (औप, सुपा २३७, महा) । १ चर वि
[चर] मौन ब्रतवाला, वाणी का समय-
वाला, वाचयम (ठा ५, १—पत्र २६६)

मित्तिवय पु [दे] ज्येष्ठ, पति का बड़ा भाई (दे ६, १३२)।

मित्री स्त्री [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (सुप्र २, ७, ३६, आ १४, प्रागु ८)।

मिथुण देखो मिहण (पत्रम ६६, ३१)।

मिट् देखो मिड (अभि १८३, नाट—रत्ना ८०)।

मिरिअ पुन [मिरिच] १ मरिच का गाछ। २ मरिच, मिर्चा (पण १७—पत्र ५३१, हे १, ४६, ठा ३, १ टी, पत्र २५६)।

मिरिआ स्त्री [दे] कटो कोपडी (दे ६, १३२)।

मिरिइ पुत्री [मरीचि] किरण, प्रभा, मिरि तेज, चञ्चलमिरिइकवय (श्रौप), मिरिइ 'सपटा समिरि (?) या' (श्रौप), मिरिअ 'निकककउच्छाया समिरीया' (श्रौप,

ठा ४, १—पत्र २२६), 'विज्जुघणमिरीइसूर-दिप्पततेय—' (श्रौप), 'सूरमिरीयकवय विणिम्मयतेहि' (पण १, ८—पत्र ७२)।

मिल अक [मिल्] मिलना। मिलइ (हे ४, ३३२, रत्ना, महा)। कर्म, मिलिज्जइ (हे ४, ४३४)। वरु, मिलत्त (से १०, १६)।

मिलक्खु पुन देखो मिच्छइ = म्नेच्छइ (श्रौप ४४०, वर्मसं ५०८, ती १५, उत्त १०, १६), 'मिलक्खुणि' (पि ३८१)।

मिलण न [मिलन] मेल, मिलना, एकत्रित होना, 'लोगमिलणम्मि' (उप ५७८, सुपा २५०)।

मिलणा स्त्री. ऊपर देखो (उप १२८ टी, उप ७०६)।

मिला } अक [म्लै] म्लान होना, निस्तेज
मिलाअ } होना। मिलाइ, मिलाअइ (दे २, १०६, ४, १८, २४०, पड्)। वरु, मिला-अत, मिलाअमाण (पि १३६, ठा ३, ३, णाया १, ११)।

मिलाअ } वि [म्लान] निस्तेज, विच्छाया
मिलाण } (णाया १, १—पत्र ३७, स ४२५, हे २, १०६, कुमा, महा)।

मिलाण न [दे] पर्याण (?) '—थासगमिला-णचमरोगडपरिमंडियकडीण' (श्रौप)।

मिलाणि स्त्री [म्लानि] विच्छायावा (उप १४२ टी)।

मिलिअ वि [मिलित] मिला हुआ (गा ४४३, कुमा)।

मिलिअ वि [मेलित] मिलाया हुआ (कुमा)।

मिलिच्छ देखो मिच्छइ = म्नेच्छइ (हे १, ८४, हम्मोर ३४)।

मिलिट्ठ वि [मिलिट्ठ] १ अस्पष्ट वाक्यवाला। २ म्लान। ३ न अस्पष्ट वाक्य (प्राक् २७)।

मिलिमिलिमिल अक [दे] चमकना। वरु, मिलिमिलिमिलत (पण १, ३—पत्र ४४)।

मिलीण देतो मिलिअ (श्रौपभा २२ टी)।

मिल्ल सक [मुच्] छोड़ना, त्यागना। मिल्लइ (भवि)। वरु, मिल्लत्त (सुपा ३१७)। कृ

मिल्लेअ (अप) (कुमा)। प्रयो, कवकृ मिल्लविज्जंत (कुप्र १६२)।

मिल्लविअ वि [मोचित] छुड़ाया हुआ (सुपा ३८८, हम्मोर १८, कुप्र ४०२)।

मिल्लिअ (अप) देखो मिलिअ (पिण)।

मिल्लिअ वि [मोकृ] छोड़नेवाला (कुमा)।

मिल्लइ देखो मिल। मिल्लइ (आत्मानु २२), मिल्लत्ति (कुप्र १७)। भवि मिल्लिस्स (कुप्र १०)। कृ मिल्लियज्ज (सिदि ३५७)।

मिल्लिय वि [मुक्त] छोड़ा हुआ (आ २७)।

मिअ देखो इव (हे २, २८२, प्राप्र, कुमा)।

मिअ सक [मिअ] शब्द करना। वरु, मिअत्त (तडु ४४)।

मिअ न [मिअ] बहाना, छल, व्याज (चेइय ८३१, सिक्खा २६, रत्ना, कुमा)।

मिअमिअ अक [दे] १ अत्यन्त चमकना। २ खूब जलना। वरु, मिअमिअत्त (णाया १, १—पत्र १६, तडु २६, उप ६४८ टी)।

मिअस (अप) सक [मिश्रय] मिश्रण करना, मिलाना। भराठी में 'मिअसणें'। मिअसइ (भवि)।

मिअस (अप) देखो मीअ, मीआलिअ (भवि)।

मिसिमिअ देखो मिसमिस वरु मिनि-मिसत्त, मिसिमिसित, मिसिमिसिमाण, मिसिमिसीयमाण, मिसिमिसैत्त मिसिमिसेमाण (श्रौप, कप्प, पि ५५८, उवा, पि ५५८, णाया १, १—पत्र ६४)।

मिसिमिसिअ वि [दे] उदीप्त, उत्तेजित (सुर ३, ५०)।

मिस्सं सक [मिश्रय] मिश्रण करना, मिलाना। मिस्सइ (हे ४, २८)।

मिस्स देखो मीअ = मिअ (अप)।

*मिस्स पु [मिश्र] पूज्य, पूजनीय, 'वसिठु-मिस्सेसु' (उत्तर १०३)।

मिस्साकूर पुन [मिश्राकूर] क्षात्र-विशेष, 'अणुराहाहि मिस्साकूर मोच्चा कज्ज साधेत्ति' (सुज्ज १०, १७)।

मिह अक [मिध्] स्नेह करना। मिहसि (सुर ४, २१)।

मिह देखो मिस = मिय, 'निग्गमो अलियाणा-मतरगमणमिहेण' (महा)।

मिह देखो मिहो (आचा)।

मिहिआ स्त्री [दे] मेघ-समूह (हे ६, १३२)। देखो महिआ।

मिहिआ स्त्री [मेघिआ] अल्प मेघ (से ४, १७)। देखो महिआ।

मिहिर पु [मिहिर] सूर्य, रवि (उप पु ३५०, सुपा ४१६, वर्मा ५), 'सायरनिसायराण मेहसिहडीण मिहिरनलिणीण। - दूरेवि वसताणं पडिअव नन्हा होइ' (उप ७२८ टी)।

मिहिला स्त्री [मिथिला] नगरी विशेष (ठा १०, पत्रम २०, ४५, णाया १, ८—पत्र १२४, इक)।

मिहु } देखो मिहो (उप ६५७, आचा)।

मिहु } मिहुण न [मिथुण] १ स्त्री पुरुष का युग्म, दंपती (हे १, १८७, पाप्र, कुमा)। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)।

मिहो अ [मिथस] परस्पर, आपस में (उप ६७६, स ५३६, पि ३४७)।

मीअ न [दे] समकाल, उसी समय (दे ६, १३३)।

मीण पु [मीण] १ मत्स्य, मछली (पाप्र, गडड, श्रौप ११६, सुर ३, ५३, १३, ४६)। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, ५३, विचार १०६, सवोध ५४)।

टी, सवे ५) । ३ पु छन्द-विशेष (पिंग) ।
 ४ वि. खुशी करनेवाला, रागजनक (कुमा) ।
 रजण पु [दे] १ घडा, कुम्भ (दे ७, ३) ।
 २ कुण्डा, पान-विशेष (दे ७, ३, पात्र) ।
 रजविय } वि [रञ्जित] राग-युक्त किया
 रजिअ } हुआ (सण, से ६, ४८, गउड,
 महा, हेका २७२) ।
 रडा छी [रणडा] राँड, विधवा (उपपृ ३१३,
 वज्जा ४४, कप्पू पिंग) ।
 रहुअ न [दे] रज्ज, रस्सी, गुजराती मे
 'राडवु' (दे ७, ३) ।
 रध सक [रध, राधय्] राँधना, पकाना ।
 'रधो राधयते स्मृत' रधइ (प्राकृ ७०),
 रधेहि (स २४६) । वकृ रधत (गाया १,
 ७—पत्र ११७) । सकृ रधिऊण (कुप्र
 २०५) ।
 रंध न [रंध्र] छिद्र, विवर (गा ६५२, रभा,
 भवि) ।
 रंधण न [रन्धन, राधन] राँधना, पचन,
 पाक (गा १४, पव ३८, सूअनि १२१ टी,
 सुपा १२, ४०१) । धर न [गृह] पाक-
 गृह (रयण ३१) ।
 रधण न [रन्धन] पाक-गृह, रसोईघर (आचा
 २, १०, १४) ।
 रप सक [तक्ष्] छिलना, पतला करना ।
 रंपइ (हे ४, १६४, प्राकृ ६५, पड्) ।
 रंपण न [तक्षण] तन्नू-कररण, पतला करना
 (कुमा) ।
 रफ देखो रप । रंफइ, रफए (हे ४, १६४,
 पड्) ।
 रफण देखो रपण (कुमा) ।
 रभ सक [गम्] जाना, गति करना । रभइ
 (हे ४, १६२), रभति (कुमा) ।
 रभ देखो रफ । रंभइ (धात्वा १४६) ।
 रभ सक [आ + रभ्] आरम्भ करना ।
 रंभइ (पड्) ।
 रभ पु [दे] अन्दोलन-फलक, हिंडोले का
 तव्ता (दे ७, १) ।
 रभा छी [रम्भा] १ कदनी, केला का गाछ
 (सुपा २५४, ६०५, कुप्र ११७, पाय) । २
 देवयाना-विशेष, एक अम्परा (सुपा २५४,

रयण ५) । ३ वैरोचन नामक बलीन्द्र की
 एक अग्र-महिषी (ठा ५, १—पत्र ३०२,
 णाया २—पत्र २५१) । ४ रावण की एक
 पत्नी (पउम ७४, ८) ।
 रक्ख सक [रक्ष्] रक्षण करना, पालन
 करना । रक्खइ (उव, महा) । भूका रक्खीअ
 (कुमा) । वकृ रक्खत (गा ३८, औप, मा
 ३७) । कवकृ रक्खीअमाण (नाट—मालती
 २८) । कृ. रक्ख, रक्खणिज्ज, रक्खियञ्च,
 रक्खेयञ्च (से ३, ५, साधं १००, गउड,
 सुपा २४०) ।
 रक्ख पुंन [रक्खस्] राक्षस (पात्र, कुप्र
 ११३, सुपा १३०, सट्टि ६ टी, सवोष ४४) ।
 रक्ख वि [रक्ष्] १ रक्षक, रक्षा करनेवाला
 (उप पृ ३६८, कप्प) । २ पु. एक जैन मुनि
 (कप्प) ।
 रक्ख देखो रक्ख = रक्ष् ।
 रक्खअ } वि [रक्षक] रक्षण-कर्ता (नाट—
 रक्खग } मालवि ५३, रभा, कुप्र २३३,
 साधं ६६) ।
 रक्खण न [रक्षण] रक्षा, पालन (सुर १३,
 १६७, गउड, प्रासू २३) ।
 रक्खणा छी [रक्षणा] ऊपर देखो (उप ८५०,
 स ६६) ।
 रक्खणिया छी [दे] रखी हुई छी, रखेलिन,
 रखनी, रखात (सुपा ३८३) ।
 रक्खवाळ वि [दे] रखवाला, रक्षा करनेवाला
 (महा) ।
 रक्खस पु [राक्षस] १ देवों की एक जाति
 (पएह १, ४—पत्र ६८) । २ विद्याधर-मनुष्यों
 का एक वंश (पउम ५, २५२) । ३ वंश-
 विशेष मे उत्पन्न मनुष्य, एक विद्याधरजाति,
 तेण चिय खयराए रक्खसनाम कय लोए'
 (पउम ५, २५७) । ४ निशाचर, क्रव्याद (से
 १५, १७, नाट—मुच्छ १३२) । ५ अहोरात्र
 की तीसवाँ मुहूर्त्त (सम ५१, सुज १०, १३) ।
 उरी छी [पुरी] लका नगरी (से १२,
 ८४) । णअरी छी [नगरी] वही
 अर्थ (से १२, ७८) । णाह् पु [नाथ]
 राक्षसों का राजा (से ८, १०४) ।
 र्थ न [रथ्] अन्न-विशेष (पउम
 ७१, ६३) । दीव पु [द्वीप] सिंहल

द्वीप (पउम ५, १२६) । णाह् देखो णाह्
 (पउम ६, ३६) । वइ पु [पति] राक्षसों
 का मुखिया (पउम ५, १२३, से ११, १) ।
 णिह्व पु [धिप] वही अर्थ (से १५, ८७,
 ६१) ।
 रक्खसिंद पु [राक्षसेन्द्र] राक्षसों का राजा
 (पउम १२, ४) ।
 रक्खसी छी [राक्षसी] १ राक्षस की छी
 (नाट—मुच्छ २३८) । २ लिपि-विशेष (विसे
 ४६४ टी) ।
 रक्खसेद देखो रक्खसिंद (से १२, ७७) ।
 रक्खा छी [रक्षा] १ रक्षण, पालन (आ १०,
 सुपा १०३, ११३) । २ राख, भस्म, 'सो
 चदए रक्खकए दहिजा' (सत्त २८, सुपा
 ६५७) ।
 रक्खिअ वि [रक्षित] १ पालित (गउड, गा
 ३३३) । २ पु एक प्रसिद्ध जैन महावि (कप्प,
 विसे २२८८) ।
 रक्खिआ देखो रक्खसी (रभा १७) ।
 रक्खी छी [रक्षी] भगवान् अरनाथ की मुख्य
 साध्वी (सम १५२, पव ८) ।
 रक्खोवग वि [रक्षोपग] रक्षण मे तत्पर
 (राय ११३) ।
 रगिळ [दे] देखो रइगोळ (षड्) ।
 रग देखो रत्त = रक्त (हे २, १०, ८६,
 पड्) ।
 रगगय न [दे] कुसुम्भ-वज्र (दे ७, ३, पात्र,
 गउड) ।
 रघुस पु [रघुष] हरिवंश का एक राजा
 (पउम २२, ६६) ।
 रच्च अक [दे रच्च्] राचना, आसक्त होना,
 अनुराग करना । रच्चइ, रच्चति, रच्चेह (कुमा,
 वजा ११२) । कर्म. 'रत्ते रच्चिजए जम्हा'
 (कुप्र १३२) । वकृ. रच्चत (भवि) । प्रयो.
 रच्चावति (वजा ११२) ।
 रच्चण न [दे रञ्जन] २ अनुराग । २ वि.
 अनुराग करनेवाला, राचनेवाला (कुमा) ।
 रच्चिर वि [दे. रञ्जित्] राचनेवाला (कुमा) ।
 रच्छा देखो रक्खा (रभा १६) ।
 रच्छा छी [रथ्या] मुहल्ला (गा ११६, औप,
 कय) ।

मित्तिवय पु [दे] ज्येष्ठ, पति का बड़ा भाई (दे ६, १३२)।

मित्ती स्त्री [मैत्री] मित्रता, दोस्ती (सुप्र २, ७, ३६, आ १४, प्रासु ८)।

मिथुण देखो मिहण (पत्रम ६९, ३१)।

मिदु देखो मिच (अभि १८३, नाट—रत्ना ८०)।

मिदिअ पुन [मिदिच] १ मरिच का गाछ। २ मिरच, मिर्चा (पण्य १७—पत्र ५३१, हे १, ४६, ठा ३, १ टी, पत्र २५९)।

मिदिआ स्त्री [दे] कुटी, भोपडी (दे ६, १३२)।

मिदिइ { पुत्री [मरीचि] किरण, प्रभा, सिरी तेज, 'चचलमिदिइकवय' (श्रीप), मिरीइ 'सप्यहा समिरि (१टी) या' (श्रीप), मिरीय 'निककडच्छाया समिरीया' (श्रीप, ठा ४, १—पत्र २२९), 'विज्जुणएमिरीइस्सुर-किपततेय—' (श्रीप), 'सुरमिरीयकवयं विणिम्मयुतोहि' (पण्य १, ४—पत्र ७२)।

मिल अक [मिल्] मिलना। मिलाइ (हे ४, ३३२, रभा, महा)। कर्म, मिलिणइ (हे ४, ४३४)। वक, मिलत (से १०, १६)।

मिलक्खु पुन देखो मिच्छ = म्लेच्छ (श्रीप ४४०, वमंस ५०८, ती १५, उत्त १०, १६), 'मिलक्खुणि' (पि ३८१)।

मिलण न [मिलन] मेल, मिलना, एकत्रित होना, 'लोगमिलणम्मि' (उप ५७८, सुपा २५०)।

मिलणा स्त्री ऊपर देखो (उप १२८ टी, उप ७०९)।

मिला } अक [म्लै] म्लान होना, नित्तेज
मिलाअ } होना। मिलाइ, मिलाअइ (दे २, १०६, ४, १८, २४०, पड)। वक, मिला-अत, मिलाअमाण (पि १३६, ठा ३, ३, याया १, ११)।

मिलाअ } वि [म्लान] नित्तेज, विच्छाय
मिलाण } (याया १, १—पत्र ३७, स ४२५, हे २, १०६, कुमा, महा)।

मिलाण न [दे] पर्याण (?) 'वासणमिला-णुचमरीगडपरिमडियकडीण' (श्रीप)।

मिलाणि स्त्री [म्लानि] विच्छायता (उप १४२ टी)।

मिलिअ वि [मिलित] मिला हुआ (गा ४४३, कुमा)।

मिलिअ वि [मेलित] मिलाया हुआ (कुमा)। मिलिच्छ देखो मिच्छ = म्लेच्छ (हे १, ८४, हम्मोर ३४)।

मिलिट्टु वि [म्लिट्ट] १ अस्पष्ट वाक्यवाला। २ म्लान। ३ न अस्पष्ट वाक्य (प्राकृ २७)।

मिलिमिलिमिल अक [दे] चमकना। वक, मिलिमिलिमिलत (पण्य १, ३—पत्र ४४)।

मिलीण देखो मिलिअ (शेषमा २२ टी)।

मिल्ल सक [मुच्] छोटना, त्यागना। मिल्लइ (अभि)। वक, मिल्लत (सुपा ३१७)। क मिल्लेव (अप) (कुमा)। प्रयो, कवक मिल्लाविज्जत (कुप्र १९२)।

मिल्लाविअ वि [मोचित] छुड़ाना हुआ (सुपा ३८८, हम्मोर १८, कुप्र ४०१)।

मिल्लिअ (अप) देखो मिलिअ (पिण)।

मिल्लिर वि [मोक्क] छोड़नेवाला (कुमा)।

मिल्लइ देखो मिल्ल। मिल्लइ (आत्मानु २२), मिल्लति (कुप्र १७)। अवि मिल्लिस्स (कुप्र १०)। क मिल्लिहयज्ज (सिरि ३५७)।

मिल्लिय वि [मुक्क] छोड़ा हुआ (आ २७)।

मिव देखो इव (हे २, २८२, प्राप्र, कुमा)।

मिस सक [मिस्] शब्द करना। वक मिसत (तदु ४४)।

मिस न [मिष] बहाना, झल, ब्याज (वेइय ८३१, सिकखा २९, रंभा, कुमा)।

मिसमिस अक [दे] १ अत्यन्त चमकना। २ खूब जलना। वक मिसमिसत (याया १, १—पत्र १९, तदु २९, उप ६४८ टी)।

मिसल (अप) सक [मिश्रय] मिश्रण करना मिलाता। भराठी में 'मिसलणें'। मिसलइ (अभि)।

मिसल (अप) देखो मीस, मीसालिअ (अभि)।

मिसिमिस देखो मिसमिस वक मि-मिसल, मिसिमिसित, मिसिमिसिमाण, मिसिमिसीयमाण, मिसिमिसैत मिसिमिसेमाण (श्रीप, कप्प, पि ५५८, उवा, पि ५५८, याया १, १—पत्र ६४)।

मिसिमिसिय वि [दे] उद्दीप्त, उत्तेजित (सुर ३, ५०)।

मिस्से सक [मिश्रय] मिश्रण करना, मिलाना। मिस्सेइ (हे ४, २८)।

मिस्से देखो मीस = मिष (अप)।

'मिस्से पुं [मिश्र] पुण्य, पुणनीय, 'वसिक्कु-मिस्सेसु' (उत्तर १०३)।

मिस्साकूर पुंन [मिश्राकूर] खाल-विशेष, 'अणुराहाहि मिस्साकूर भोज्जा कज्ज सार्पति' (सुज्ज १०, १७)।

मिह अक [मिध्] स्नेह करना। मिहसि (सुर ४, २१)।

मिह देखो मिस = मिप, 'निग्गशो अलियणा-मत्तरामणमिहेण' (महा)।

मिह देखो मिहो (आचा)।

मिहिआ स्त्री [दे] मेघ-समूह (दे ६, १३२)। देखो महिआ।

मिहिआ स्त्री [मेघिका] अल्प मेघ (से ४, १७)। देखो महिआ।

मिहिर पु [मिहिर] सूर्य, रवि (उप पु ३५०, सुपा ४१६, वमों ५),

'सायरनिसायराण मेहसिहडीण - मिहिरत्तिलीण। - दूरेवि वसताए पडिबन्न नन्हा होइ' (उप ७२८ टी)।

मिहिला स्त्री [मिथिजा] नगरी विशेष (ठा १०, पत्रम २०, ४५, याया १, ८—पत्र १२४, इक)।

मिहु } देखो मिहो (उप ९४७, आचा)।

मिहुण न [मिथुण] १ स्त्री-पुरुष का युग्म, बपती (हे १, १८७, पाप्र, कुमा)। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (विचार १०६)।

मिहो अ [मिथस्] परस्पर, आपस में (उप ९७६, स ५३६, पि ३४७)।

मीअ न [दे] समयकाल, उद्यी समय (दे ६, १३३)।

मीण पुं [मीण] १ मत्स्य, मछली (पाप्र, गड, श्रीप ११६, सुर ३, ५३, १३, ६६)। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, ५३, विचार १३६, सवोच ५४)।

रक्तखर न [दे] सीधु, मद्य-विशेष (दे ७, ४) ।

रक्तच्छ पुं [दे] १ हस । २ व्याघ्र (७, १३) ।

रक्तडि (अप) देखो रत्ति = रात्रि (पि ५६६) ।

रक्तय न [दे रक्तक] वन्धूक वृक्ष का फूल (दे ७, ३) ।

रक्ता स्त्री [रक्ता] एक नदी (सम २७, ४३, इक) । १ वडपवाय पु [वतीप्रपात] ब्रह्म-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७३) ।

रत्ति स्त्री [दे] आना हुकुम (दे ७, १) ।

रत्ति स्त्री [रात्रि] रात, निशा (हे २, ७६, कुमा, प्रासू ६०) । १ अघय वि [अन्धक] रात को नहीं देख सकनेवाला (गा ६६७, हेका २६) । १ अर वि [चर] १ रात में विहरनेवाला । २ पु राक्षस (षड्) । १ दिवह न [दिवस] रात-दिन, अर्हानिश (पि ८८) । देखो राइ = रात्रि ।

रत्तिचर देखो रत्ति = अर (धर्मवि ७२) ।

रत्तिदिअह न [रात्रिदिवस] रात-दिन, अर्हानिश, निरन्तर (अन्तु ७८) ।

रत्तिदिय } न [रात्रिन्दिव] ऊपर देखो
रत्तिदिय } (पउम ८, १६४, ७५, ८५) ।

रत्तिध वि [रात्र्यन्ध] जो रात में न देख सकता हो वह (प्रासू १७५) ।

रत्तीअ पु [दे] नापित, हजाम (दे ७, २, पात्र) ।

रत्तूपल न [रक्तोत्पाल] लाल कमल (परह १, ४) ।

रत्तोआ स्त्री [रक्तोदा] एक नदी (इक) ।

रत्तोपल देखो रत्तूपल (नाट—मृच्छ १४५) ।

रत्त्या देखो रच्छा (गा ४०, अत १२, सुर १, ६६) ।

रद्ध वि [रद्ध, राद्ध] राधा हुआ, पक्व (पिड १६५, सुपा ६३६) ।

रद्धि वि [दे] प्रधान, श्रेष्ठ (दे ७, २) ।

रत्न वि रण्य (सुपा ४०१, कुमा) ।

रप्य सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना । रप्यइ (प्राक ७३) ।

रप्फ पुं [दे] वल्मीक, गुजराती में 'राफडो' (दे ७, १, पात्र) । २ रोग-विशेष, 'फरि कपु पायमूलिबु रफ्य' (सण) ।

रप्फडिआ स्त्री [दे] गोधा, गोह (दे ७, ४) ।

रव्वा वि [दे] राव, यवाण (आ १४, उर २, १२, धर्मवि ४२) ।

रभस देखो रहस = रभस (गा ८७२, ८६४, ६३४) ।

रम अक [रम्] १ क्रीडा करना । २ संभोग करना । रमइ, रमए, रमते, रमिज्ज, रमेज्जा (कुमा) । भवि रमिस्सदि, रमिहिइ (कुमा) ।

कर्म. रमिज्जइ (कुमा) । वक्क. रमत, रम-माण (गा ४४, कुमा) । सक्र रमिअ, रमिउ, रमिऊण, रतूण (हे २, १४६, ३, १३६, महा, पि ३१२), रमेप्पि, रमेप्पिणु, रमेवि (अप) (पि ५८८) । हेक्क रमिउ (उप पृ ३८) । क्क रमिअव्व (गा ४६१), देखो रमणिज्ज, रमणीअ, रम्म । प्रयो रमावेत्ति (पि ५५२) ।

रमण न [रमण] १ क्रीडा, क्रीडन । २ सुरत, संभोग, रति-क्रीडा (पव ३८, कुमा, उप पृ १८७) । ३ स्मर-कूपिका, योनि (कुमा) । ४ पु जघन, नितम्ब (पात्र) । ५ पति, वर, स्वामी (पउम ५१, १६, पिग) । ६ छन्द-विशेष (पिग) ।

रमणिज्ज वि [रमणीय] १ सुन्दर, मनोहर, रम्य (प्राप्र, पात्र, अमि २००) । २ न. एक देव-विमान (सम १७) । ३ पु नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में उत्तर दिशा की ओर स्थित एक अञ्जन-गिरि (पव २६६ टी) । ४ एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

रमणी स्त्री [रमणी] १ नारी, स्त्री (पात्र, उप पृ १८७, प्रासू १५५, १८०) । २ एक पुष्करिणी (इक) ।

रमणीअ वि [रमणीय] रम्य, मनोरम (प्राप्र, स्वप्न ४०, गजड, सुपा २५५, भवि) ।

रमा स्त्री [रमा] लक्ष्मी, श्री (कुम्मा ३) ।

रमिअ देखो रम ।

रमिअ वि [रत] १ क्रीडित, जिसने क्रीडा की हो वह (कुमा ४, ५०) । २ न. रमण, क्रीडा (गाया १, ६—पत्र १६५, कुमा, सुपा ३७६, प्रासू ६५) ।

रमिअ वि [रमित] रमाया हुआ (कुमा ३, ८६) ।

रमिर वि [रन्तु] रमण करनेवाला (कुमा) ।

रम्म वि [रम्य] १ मनोरम, रमणीय, सुन्दर (पात्र, से ६, ४७, सुर १, ६६, प्रासू ७१) । २ पुं. विजय-विशेष, एक प्रान्त (ठा २, ३—पत्र ८०) । ३ चम्पक का गाछ (से ६, ४७) । ४ न एक देव-विमान (सम १७) ।

रम्मग } पु [रम्यक] १ एक विजय, प्रान्त-
रम्मय } विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

२ एक युगलिक-क्षेत्र, जंबू-द्वीप का वर्ष-विशेष (सम १२, ठा २, ३—पत्र ६७, इक) । ३ न. एक देव-विमान (सम १७) । ४ पर्वत-विशेष का एक कूट (ज ४) ।

रम्ह देखो रफ । रम्हइ (प्राक ६५) ।

रय सक [रज्] रँगना, 'नो घोएजा, नो एएजा, नो घोयरताई वत्याइ घोरेजा' (आचा) ।

रय सक [रच्यु] बनाना, निर्माण करना । रयइ, रयइ (हे ४, ६४, षड्, महा) । कवक. रइज्जत (से ८, ८७) ।

रय पुन [रजस्] १ रेणु, धूल (श्रीप, पात्र, कुप्र २१) । २ पराग, पुष्प-रज (से ३, ४८) । ३ साख्य-दर्शन में उक्त प्रकृति का एक गुण (कुप्र २१) । ४ वच्यमान कर्म (कुमा ७, ५८, वेइय ६२२, उव) । १ चाण न [त्राण] जैन मुनि का एक उपकरण (श्रीव ६६८, परह २, ५—पत्र १४८) । १ रसखा स्त्री [स्वला] ऋतुमती स्त्री (दे १, १२५) । १ हर पुन [हर] जैन मुनि का एक उपकरण (सबोध १५) । १ हरण न [हरण] वही अर्थ (गाया १, १, कस) ।

रय वि [रत] १ अनुरक्त, आसक्त (श्रीप, उव, सुर १, १२, सुपा ३०६, प्रासू १६६) । २ स्थित (से ६, ४२) । ३ न. रति-कर्म, मैथुन (सम १५, उव, गा १५५, स १८०, वज्ज १००, सुपा ४०३) ।

रय पु [रय] वेग (कुमा, से २, ७, सण) ।

रय देखो रव (पउम ११४, १७) ।

रयग देखो रयय = रजक (आ १२, सुपा ५८८) ।

रयण न [रजन] रँगना, रँग-युक्त करना (सुप्र १, ६, १२) ।

मुंड पुन [मुण्ड] १ मस्तक, सिर (हे ४, ४४६, पिंग) । २ वि. मुण्डित, दीक्षित, प्रव्रजित (कम्प, उवा, पिड ३१४) । ३ परसु पु [परसु] नगा कुल्हाडा, तीक्ष्ण कुठार (पएह १, ३—पत्र ५४) ।

मुण्डण न [मुण्डण] केशो का अपनयन (पचा २, २, स २७१, सुर १२, ४५) ।

मुंडा बी [दे] मृगी, हरिणी (दे ६, १३३) ।

मुंडाविअ वि [मुण्डित] मुंडाया हुमा (भग, महा, णाया १, १) ।

मुडि वि [मुण्डिन्] मुण्डन करनेवाला (उव, औप, भत १००) ।

मुडिअ वि [मुण्डित] मुण्डन-युक्त (भग, उप ६३४, महा) ।

मुडी बी [दे] नीरङ्गी, शिरो वल्ल, घूँघट (दे ६, १३३) ।

मुंड } पुं [मूर्धन्] मूर्धा, मस्तक, सिर
मुडाण } (हे १, २६, २, ४१, षड्) ।
देखो मुद्ध = मूर्धन् ।

मुकलाव सक [दे] भोजवाना, गुजराती में 'मोकलाव' । सक मुकलाविऊण (सिरि ४७४) ।

मुकुर पु [मुकुर] वर्षण, झाईना (दे १, १४) ।

मुक (अप) सक [मुच्] छोडना, गुजराती में 'मुकनु' । मुकइ (प्राक ११६) । सक मुक्खिअ (नाट—चैत ७६) ।

मुक वि [मूक] वाक्-शक्ति से रहित, भूँगा (हे २, ६६, सुपा ५५२, षड्) ।

मुक देखो मुक्कल (विसे ५५०) ।

मुक वि [मुक्त] १ छोडा हुमा, त्यक्त (उवा, सुपा ४७५, महा, पात्र) । २ मुक्ति-प्राप्त, मोक्ष-प्राप्त (हे २, २) । ३ लगतार पाँच दिन का उपवास (सबोध ५८) । देखो मुत्त = मुक्त ।

मुक्य न [दे] कुलहिन के अतिरिक्त अन्य निमन्त्रित कन्याओं का विवाह (दे १, १३५) ।

मुकाल वि [द] १ उचित, योग्य (दे ६, १४७) । २ स्वैर, स्वतन्त्र, बन्धन-मुक्त (दे ६, १४७, सुर १, २३३, विवे १८, गउड, सिरि ३५३, पात्र, सुपा १६८) ।

मुकलिअ वि [दे] बन्धन-मुक्त किया हुमा, अनियन्त्रित (दे १, १५६ टी) ।

मुक्कुडी बी [दे] बूट (दे ६, ११७) ।

मुक्कुरुड पु [दे] राशि, ढेर (दे ६, १३६) ।

मुक्केलय देखो मुक = मुक्त (अणु १६८) ।

मुक्ख पु [मोक्ष] १ मुक्ति, निर्वाण (सुर १४, ६५, हे २, ८६, सार्ध ८६) । २ छुटकारा, 'रियमुक्ख' (रयण ६५, धर्मवि २१) ।

मुक्ख वि [मूर्ख] अज्ञानी, बेवकूफ (हे २, ११२, कुमा, गा ८२, सुपा २३१) ।

मुक्ख वि [मुख्य] प्रधान, नायक (हास्य १२५) ।

मुक्ख पुंन [मुष्क] १ अरडकोष । २ कुल-विशेष । ३ चोर, तस्कर । ४ वि. मासल पुट (प्राप्र) ।

मुक्खण देखो मोक्खग (सिक्खा ४५) ।

मुक्खणी बी [मोक्षणा] स्तम्भन से छुटकारा करनेवाली विद्या-विशेष (धर्मवि १२४) ।

मुख देखो मुह = मुख (प्रासू ६, राज) ।

मुख पु [मुख] १ एक म्लेच्छ-जाति (मुच्छ १५२) । २ गाडी के ऊपर का ढक्कन (अणु १५१) ।

मुग देखो मुग्गा, 'एगमुगमखवहणे भसमत्यो कि गिरि वहइ' (सुपा ४६१) ।

मुगइ देखो मउद = मुकुन्द (भाचा २, १, २, ४, विसे ७८ टी) ।

मुगुस पुत्री [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु की एक जाति, भुजपरिसर्प-जातीय एक प्राणी (पएह १, १—पत्र ८) । बी सा (उवा) । देखो मगुस, मुग्गस ।

मुग्गा पु [मुद्ग] १ धान्य-विशेष, भूँगा (उवा) । २ रोग-विशेष (ति १३) । ३ पक्षि-विशेष, जल-काक (प्राप्र) । ४ पणगी बी [पणी] वनस्पति विशेष (पएण १—पत्र ३६) । ५ सेल पु [शैल] पर्वत-विशेष, कभी नहीं भोगनेवाला एक पर्वत (उप ७२८ टी) ।

मुग्गाड पु [दे] मोगल, म्लेच्छ-जाति विशेष (हे ४, ४०६) । देखो मोगगाड ।

मुग्गर न [मुद्गर] १ पुत्र विशेष (वज्जा १०६) । २ देखो मोगगर (प्राप्र, आप ३६, कम्प) ।

मुग्गरय न [दे-मुग्गरय] मुग्गा के साथ रमण (वज्जा १०६) ।

मुग्गल देखो मुग्गाड (ती १५) ।

मुग्गस पु [दे] नकुल, न्यूला (दे ६, ११८) ।

मुग्गाह अक [प्र+सू] फैलना । मुग्गाहइ (?) (वाक्वा १४८) ।

मुग्गल } पु [दे] पर्वत विशेष (ती ७, भत
मुग्गल } १६१) ।

मुग्गसु देखो मुग्गस (दे ६, ११८) ।

मुग्गड देखो मुग्गाड (हे ४, ४०६) ।

मुग्गुरुड देखो मुक्कुरुड (दे ६, १३६) ।

मुक्कुइ } देखो मुउउद (सुर २, ७६,
मुक्कुइ } कुमा) ।

मुच्छ अक [मूर्च्छ] १ मूर्च्छित होना । २ भासक होना । ३ बदना । मुच्छइ, मुच्छए (कस, सूम १, १, ४, २) । वड मुच्छत, मुच्छमाण (गा ५४६, भाचा) ।

मुच्छणा बी [मूर्च्छना] गान का एक अंग (ठा ७—पत्र ३६५) ।

मुच्छा बी [मूर्च्छा] १ मोह (ठा २, ४, प्रासू १७६) । २ अचेतनावस्था, बेहोशी (उव, पडि) । ३ गृद्धि, भासक (सम ७१) । ४ मूर्च्छना, गीत का एक अंग (ठा ७—पत्र ३६३) ।

मुच्छाविअ वि [मूर्च्छित] मूर्च्छा-युक्त किया हुमा (से १२, ३८) ।

मुच्छिअ वि [मूर्च्छित] १ मूर्च्छा-युक्त (प्रासू ५७, उवा) । २ पु. नरभवास-विशेष (देवेन्द्र २७) ।

मुच्छिजत वि [मूर्च्छायमान] मूर्च्छा को प्राप्त होता (से १३, ४३) ।

मुच्छिअ पु [मूर्च्छिम] मध्य विशेष, 'वायाए काएण मयारहिप्राए न दाएण कम्म । जोअयसहस्समाणो मुच्छिममच्छो उअ्राहरण' (मन ३) ।

मुच्छिअ वि [मूर्च्छिअ] १ बदनेवाला । २ बेहोशीवाला (कुमा) ।

मुष्क अक [मुह] १ मोह करना । २ पवडाना । मुष्कइ (भाचा, उव, महा) । भवि मुष्कहिहि (प्रोप) । क मुष्कनउव (पएह २, ५—पत्र १६६, उव) ।

चाँदी का बरतन (गउड)। १। मय वि [०मय] चाँदी का बना हुआ (ग्याया १, १—पत्र ५४, वि ७०)।

रयय पु [रजक] घोवी (स २२६, पात्र)।

रययली ली [दे] शिशव वाल्य (दे ७, ३)।

रयवाडी देखो राय वाडिआ (सिरि ७५८)।

रयाव सक [रचय्] बनवाना, निर्माण कराना। रयावेइ, रयाविति, रयावेह (कप्प)। सक रयावेत्ता (कप्प)।

रयाविय वि [रचित] बनवाया हुआ (स ४३५)।

रझा ली [दे] प्रियगु, मालकांगनी (दे २, १)।

रझि पुझी [दे] लम्बा मधुर शब्द (माल ६०)।

रव सक [रु] १ कहना, बोलना। २ वच करना। ३ गति करना। ४ अक. रोना।

५ शब्द करना, 'सुद्ध रवति परिसाए' (सुअ १, ४, १, १८), रवइ (हे ४, २३३, सक्ति ३३)। वक रवत, रवेत (ग्याया १, १—पत्र ६५, पिग, श्रौप)।

रव सक [रावय्] बुलवाना, आह्वान करना। वक रवेत (श्रौप)।

रव सक [दे] आद्रं करना। भवि—रवेहिइ (एदि)।

रव पु [रव] १ शब्द, आवाज (कप्प; महा, सण, भवि)। २ वि मधुर शब्दवाला, 'रव अलस कलमजुल' (पात्र)।

रव (अप) देखो रय = रजष् (भवि)।

रवेण } (अप) देखो रमण (भवि)।

रवण } (अप) देखो रमण (भवि)।

रवण न [रवण] आगाज करना, 'पचासने य करेलुया सया रवणमीला आसी' (महा)।

रवण } (अप) देखो रमण = रम्य (हे ४, रवण } ४२२, भवि)।

रवय पु [दे] मयान-दण्ड, विलोने की लकड़ी, गुजराती में रवयो (दे ७, ३)।

रवरप अक [रोरुप] १ खूब आवाज करना। २ वारवार आवाज करना। वक. रवरवत (श्रौप)।

रवि वि [रविन्] आवाज करनेवाला (से २, २६)।

रवि न [रवि] १ सूर्य, सूरज (से २, २६, गउड, सण)। २ राक्षस-वश का एक राजा (पउम ५, २६२)। ३ अक वृक्ष, आक का पेड़ (हे १, १७२)। १। ०तेअ पु [०तेजस्] १ इक्ष्वाकु वश का एक राजा (पउम ५, ४)। २ राक्षस वश का एक राजा, एक लकेश (पउम ५, २६५)। ०तेया ली [०तेजा] एक विद्या (पउम ७, १४१)। ०नदण पु [०नन्दन] शनि-ग्रह (आ १२)। ०प्यभ पु [०प्रभ] वानरद्वीप का एक राजा (पउम ६, ६८)। ०भत्ता ली [०भक्ता] एक महौषधि (तो ५)। ०भास पु [०भास] खड्ग-विशेष, सूर्यहास खड्ग (पउम ५५, २६)। ०वार पु [०वार] दिन-विशेष, रविवार (कुप्र ४११)। ०सुअ पुं [०सुत] १ शनिश्चर ग्रह (से ८, २८, सुपा ३६)। २ रामचन्द्र का एक सेनापति, सुग्रीव (से १५, ५६)। ०हास पु [०हास] सूर्यहास खड्ग (पउम ५३, २७)।

रविगय न [रविगत] जिसपर सूर्य हो वह नक्षत्र (वव १)।

रविय वि [दे] आद्रं किया हुआ, भिजाया हुआ (विसे-१४५६)।

रव्वारिअ पु [दे] हूत, सदेश-हारक, 'जेण अरव्वओ रव्वारिओ ति' (सुपा ४२८)।

रस सक [रस्] चिल्लाना, आवाज करना। रसइ (गा ४३६)। वक. रसत (सुर २, ७४, सुपा २७३)।

रस पुन [रस] १ जिह्वा का विषय—मधुर, तिक्त आदि, 'एणे रसे', 'एव गघाइ रसाइ फासाइ' (ठा १०—पत्र ४७१, प्रासू १७४)। २ स्वभाव, प्रकृति (से ४, ३२)। ३ साहित्य-शास्त्र-प्रसिद्ध शृंगार आदि नव रस (उत्त १४, ३२, धर्मवि १३, सिरि ३६)। ४ जल, पानी (से २, २७, धर्मवि १३)। ५ सुख (उत्त १४, ३१)। ६ आसक्ति, दिलचस्पी (सत्त ५३, गउड)। ७ अनुराग, प्रेम (पात्र)। ८ मद्य आदि द्रव पदार्थ (परह १, १, कुमा)। ९ पारद, पारा (निद्ध १३)। १० भुक्त अन्न का प्रथम परिणाम, शरीरस्थ घातु-विशेष (गउड)। ११ कर्म-विशेष (कम्म २, ३१)। १२ छन्द शास्त्र-प्रसिद्ध प्रस्तार-

विशेष (पिग)। १३ माधुर्य आदि रसवाला पदार्थ (सम ११, नव २८)। ०नाम न [०नामन्] कर्म-विशेष (सम ६७)। ०न्न वि [०न्न] रस का जानकार (सुपा २६१)। ०भेइ वि [०भेदिन्] रसवाली चीजों का भेल-सेल करनेवाला (पउम ७५, ५२)। ०भंत वि [०वत्] रस-युक्त (भग, ठा ५, ३—पत्र ३३३)। ०वई ली [०वती] रसोई (सुपा ११)। ०ल, ०लु वि [०वत्] रसवाला (हे २, १५६, सुख ३, १)। ०वण पु [०पण] मद्य की दुकान (पव ११२)।

रस पुन [रस] निष्पन्द, निचाड, सार (दसनि ३, १६)।

रसण न [रसन] जिह्वा, जीभ (परह १, १—पत्र २३, आचा)।

रसणा ली [रसना] १ मेखला, काची (पात्र-गउड, से १, १८)। २ जिह्वा, जीभ (पात्र)। ०ल वि [०वत्] रसनावाला (सुपा ५५६)।

रसइ न [दे] उल्लो-मूल, चूल्हे का मूल भाग (दे ७, २)।

रसा ली [रसा] पृथिवी, धरती (हे १, १७७, १८०, कुमा)।

रसाड पु [दे रसायुष्] भ्रमर, भौरा (दे ७, २, पात्र)।

रसाय पु [दे] ऊपर देखो (दे ७, २)।

रसायण न [रसायन] वैद्यक-प्रसिद्ध श्रौषध-विशेष (विपा १, ७, प्रासू १६२, भवि)।

रसाल पु [रसाल] आन्न-वृक्ष, आम का गाछ (सम्मत्त १७३)।

रसाला ली [दे रसाला] माजिता, पेय-विशेष (दे ७, २, पात्र)।

रसालु पुं [दे रसालु] मज्जिका, राज-योग्य पाक-विशेष—दो पल ची, एक पल मधु, आधा आढक दही, बीस मिरचा तथा दस पल चीनी या गुड से बनता पाक (ठा ३, १—पत्र ११८, सुज २० टी, पव २५६)।

रसि देखो रसिस् (प्राक २६)।

रसिअ वि [रसिक] १ रसज्ञ, रसिया, शौकीन (से १, ६)। २ रस-युक्त, रसवाला (सुपा २६, २१७, पउम ३१, ४६)।

चउक' (संबोध २) । ३ शरीर, देह (सुर १, ३, पात्र) । ४ कठिनत्व, कठिनत्व (हे २, ३०, प्राप्र) । ५ मत-वि [५ मत्] मुक्तिवाला, मूत, खो (धर्मवि ६, सुपा ३८६, श्रु ६७) ।

मुक्ति ली [मुक्ति] १ मोक्ष, निर्वाण (आचा, पात्र, प्रासू १५५) । २ निर्लोभता, सतोष (आ ३१) । ३ मुक्त जीवों का स्थान, ईष्यप्राग्भारा पृथिवी (ठा ८—पत्र ४४०) । ४ निस्सगता (आचा) ।

मुक्ति वि [मूत्रिन्] बहु-मूत्र रोगवाला, 'उर्यरि च पास मुक्ति च सूरिण्यं च गिलासिए' (आचा) ।

मुक्ति वि [मौक्तिक, मौक्तिक] मोती पिरोने या धूँधने वाला (उप पृ २१०) ।

मुक्तिअ न [मौक्तिक] मुक्ता, मोती (सि ५, ४६, कुप्र ३, कुमा, सुपा २४, २४६, प्रासू ३६, १७१) । देखो मोक्तिअ ।

मुक्तोली ली [दे] १ मुनाशय (तदु ४१) । २ वह छोटा कोठा जो ऊपर नीचे सकीएँ और मध्य में विशाल हो (राज) ।

मुत्थ वि [मुस्त] मोथा, नागरमोथा (गउड) । ली १ था (संबोध ४४, कुमा) ।

मुदग्ग देखो मुअग्ग (ठा ७—पत्र ३८२) ।

मुदा ली [मुद] हर्ष, खुशी । १ गर वि [१ कर] हर्षजनक (सूत्र १, ६, ९) ।

मुदुग पु [दे] ग्राह-विशेष, जल-जन्तु की एक जाति (जीव १ टी—पत्र ३६) ।

मुद सक [मुदय] १ मोहर लगाना । २ बन्द करना । ३ अंकन करना । मुदह (धम्म ११ टी) ।

मुदग पु [दे] १ उत्सव । २ सम्मान (?) (सि ४६३, ४६४) ।

मुदग पु [मुद्रिका] अँपूठी (उवा), 'लडो मुदय' भद' तुमे कि अह अणुलिमुदधो एतो' (पजम ५३, २४) ।

मुदा ली [मुद्रा] १ मोहर, छाप (सुपा ३२१, वजा १५६) । १ अँपूठी (उवा) । ३ अण-विन्यास-विशेष (चैत्य १४) ।

मुद्विअ वि [मुद्रित] १ जिस पर मोहर लगाई गई हो वह । २ बंद किया हुआ (शाया १, २—पत्र ८६, ठा ३, १—पत्र १२३, कम्पु सुपा १४४, कुप्र ३१) ।

मुद्विअ } ली [मुद्रिका] अँपूठी (पह १, मुद्विआ } ४, कप्प, औप, तंदु २६) । १ बंध पु [१ बन्ध] ग्रन्थि-बन्ध, बन्ध-विशेष (ओष ४०२, ४०५) ।

मुद्विआ ली [मुद्वीका] १ द्राक्षा की लता (पहण १—पत्र ३३) । २ द्राक्षा, दाख (ठा ४, ३—पत्र २३६, उत ३४, १५, पव १५५) ।

मुद्वी ली [दे] चुम्बन (दे ६, १३३) ।

मुद्वुय देखो मुदुग (पहण १—पत्र ४८) ।

मुद्व देखो मुठ (औप, कप्प, ओषभा १६, कुमा) । १ अ वि [१ न्य] १ मस्तक में उत्पन्न । २ मस्तक-स्य, अग्रेसर । ३ मूर्धत्यानीय रकार आदि वणं (कुमा) । ४ पु [१ ज] केश, बाल (पह १, ३—पत्र ५४) । ५ सुल न [१ शूल] मस्तक-पीडा, रोग विशेष (शाया १, १३) ।

मुद्व वि [मुग्ध] १ मूढ, मोह-युक्त । २ सुन्दर, मनोहर, मोह-जनक (हे २, ७७ प्राप्र, कुमा, विपा १, ७—पत्र ७७) ।

मुद्व ली [मुग्धा] मुग्धा ली, नायिका का एक भेद, काम-वेष्टा-रहित अकुरित यौवना (कुमा) ।

मुद्व (अप) देखो मुहा (कुमा) ।

मुद्वाप देखो मुठ (उवा, कप्प; पि ४०२) ।

मुद्वभ पु [दे] घर के ऊपर का तिर्यक् काष्ठ, पुजराती में 'मोभ' (दे ६, १३३) । देखो मोच्चभ ।

मुमुक्खु वि [मुमुक्खु] मुक्त होने की चाह-वाला (सम्मत्त १४०) ।

मुम्मुइ } वि [मूकमूक] १ अत्यन्त मूक ।

मुम्मुय } २ अन्वक्तभाषी (सूत्र १, १२, ५, राज) ।

मुम्मुसक [चूर्णय] चूरना, चूर्ण करना । मुम्मुसद (प्राक् ७५) ।

मुम्मुस पु [दे] करीप, गोइठा (दे ६, १४७) ।

मुम्मुस पु [दे] सुखर १ करीपानि, गोइठा को आग (दे ६, १४७, जी ६) । २ तुपागि (सुर ३, १८७) । ३ भस्म-च्छन्न अग्नि, भस्म-मिश्रित अग्नि-कण (उप ६४८ टी, जी ६, जीव १) ।

मुम्मुही ली [मुम्मुही] मनुष्य की दश दशाओं में नववी दशा—८० से ९० वर्ष

तक को भवत्या (ठा १०—पत्र ५१६, तदु १६) ।

मुर अक [उड] १ विलास करना । २ सक, उत्पीडन करना । ३ जीभ चलाना । ४ उपक्षेप करना । ५ व्यास करना । ६ बोलना । ७ फँकना । मुरइ (प्राक् ७३) ।

मुर अक [स्फुट] खोलना । मुरइ (हे ४, ११४, षड्) ।

मुर पु [मुर] वैद्य-विशेष । १ रिउ पु [१ रिपु] श्रीकृष्ण (ती ३) । २ वैरिय पु [१ वैरिन्] वही अर्थ (कुमा) । ३ रि पु [१ रि] वही अर्थ (वजा १५४) ।

मुरई ली [दे] असती, कुलटा (दे ६, १३५) ।

मुरज पु [मुरज] मुदग, वायु-विशेष (कप्प, मुरय } पात्र, गा २५३, सुपा ३६३, अत, धर्मवि ११२, कुप्र २८८, औप, उप पृ २३६) । देखो मुरय ।

मुरल पुं.व. [मुरल] एक भारतीय वनस्पति देश, केरल देश, 'विअर ए विद्धा गुप मुरला' (गा ८७६) ।

मुरव देखो मुरय (औप, उप पृ २३६) । २ अण-विशेष, गल-वर्णिका (औप) ।

मुरवि ली [दे मुरजिन] आभरण विशेष (औप) ।

मुरिअ वि [स्फुटित] खोला हुआ (कुमा) ।

मुरिअ वि [दे] १ घुटित, टूटा हुआ (दे ६, १३५) । २ मुडा हुआ, बक्र बना हुआ (सुपा ५४७) ।

मुरिअ पु [मौर्य] १ प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (उप २११ टी) । २ मौर्य वंश में उत्पन्न, 'रापगिहे मू(?) मु)रियवलभदे' (विसे २३५७) ।

मुरड पु [मुरण्ड] १ अनायं देश-विशेष (इक, पव २७४) । २ पादलिप्तमूरि के समय का एक राजा (पिड ४६४, ४६८) । ३ पुत्री, मुरण्ड देश का निवासी मनुष्य (पहण्ड १, १—पत्र १४) । ली १ डी (इक) ।

मुरकि ली [दे] पक्षात्र-विशेष (मण) ।

मुरक्ख देखो मुक्ख = मूर्ख (हे २, ११२, कुमा, सुपा ६११, प्राक् ६७) ।

मुत्सुड पु [दे] जूट, केयो की लट (दे ६, ११७) ।

राइ—राम

राइ देखो रत्ति (हे २, ८८, काप्र १८६, महा, षड्) । २ चमरेन्द्र की एक अग्र-महियो (ठा ५, १—पत्र ३०२) । ३ ईशानेन्द्र के सोम लोकपाल की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) । °भक्त न [°भक्त] रात्रि-भोजन, रात मे खाना (सुभा ४८५) । °भोजन न [°भोजन] वही अर्थ (सम ३६, कस) । देखो राई = रात्रि ।

राइ बी [राजि] पक्ति, श्रेणी (पाप्र, औप) । २ रेखा, लकीर (कम्म १, १६, सुभा १६७) । ३ राई, राज-सर्प, एक प्रकार का मसाला (दे ६, ८८) ।

राइ वि [रागिन्] राग-युक्त, रागवाला (वसा ६) । बी. °पी (महा) ।

राइ वि [राजिन्] शोभनेवाला (निचू १६) । राइ° देखो राय = राजन् (हे २, १४८, ३, ५२, ५३, कुमा) ।

राइअ वि [राजित] शोभित (से १, ५६, कुमा, ६, ६३) ।

राइअ वि [रात्रिक] रात्रि-सम्बन्धी (उत्त २६, ४६, औप, पडि) ।

राइआ बी [राजिका] राई का गल्ल, 'गोलाएइय कळ्हे चक्कतो राइआइ पत्ताइ' (गा १७१ अ) । देखो राइगा ।

राइद पु [राजेन्द्र] बडा राजा (कुमा) ।

राइदिअ पु [रात्रिन्दिव] रात दिन, अहोरात्र (भग, प्राचा, कप्प, पत्र ७८, सम २१) ।

राइफ वि [राजकीय] राज-सम्बन्धी (हे २, १४८, कुमा) ।

राइगा बी [राजिका] राई, राज-सरसो (कुप्र ४५) ।

राइगिअ वि [रात्तिक] १ चारिनवाला, समयी (पचा १२, ६) । २ पर्याय से ज्येष्ठ, साधुत्व प्राप्ति की अवस्था से बडा (सम ३७, ५८, कप्प) ।

राइग्निअ नि [राजकल्प] राजा के समान धननवाला, धीमन्त (सुम १, २, ३, ३) ।

राइग्ण पु [राजन्य] राजवंशीय, क्षत्रिय राइन् } (सम १५१, कप्प, औप, नग) ।

राइनेऊण सङ्घ चोरकर (नदीटिप्पनक य पिम पादलिप्पनवा धनयिकी बुद्धि विपयक) ।

राइल्ल वि [रागिन्] राग-युक्त (देवेन्द्र २७८) ।

राई बी [राजी] देखो राइ = राजि (गउड, सुभा ३४, धासू ६२, पत्र २५६) ।

राई बी [रात्रि] देखो राइ = रात्रि (पाप्र, खाया २—पत्र १५०, औप, सुभा ४६१, कस) । °दिवस न [°दिवस] रात्रिदिवस, अहर्निश (सुभा १२७) ।

राईमई बी [राजीमती] राजा उग्रसेन की पुत्री और भगवान् नेमिनाथ की पत्नी (पडि) ।

राईव न [राजीव] कमल, पत्र (पाप्र, हे १, १८०) ।

राईसर पु [राजेश्वर] १ राजाओं के मालिक, महाराज । २ युवराज (औप, उवा, कप्प) ।

राउत्त पुं [राजपुत्र] राजपूत, क्षत्रिय (प्राक्क ३०) ।

राउल पु [राजकुल] १ राजाओं का वृष, राज-समूह (कुमा, हे १, २६७, प्राप्र) । २ राजा का वश (षड्) । ३ राज-गृह, दरवार, 'ए ईदिसस्स राउलस्स दूरेण पयामो कीरदि, जल्य वयणावि एवं विडविज्जति' (मोह ११) । देखो राओल ।

राउलिय वि [राजकुलिक] राजकुल-सम्बन्धी (सुल २, ३१) ।

राउल्ल देखो राइक (प्राक्क ३५) ।

राएसि पुं [राजपि] १ श्रेष्ठ राजा । २ ऋषि-नुत्य राजा, सयतात्मा भूपति (अभि ३६, विक्क ६८, मोह ३) ।

राओ अ [रात्रौ] रात मे (खाया १, १—पत्र ६१, सुभा ४६७, कप्प) ।

राओल देखो राउल ।

'तो किपि षण सयणोहि विलसिय किपि वाणिपुत्तेहि ।

किपि गय राओले एस अणुत्तति भणिएण ॥

(धर्मवि १४०) ।

राग देखो राय = राग (कप्प, सुभा २४१) ।

रागि देखो राइ = रागिन् (पउम ११७, ४१) ।

रापव देखो राहव । °वरिणी बी [°गृहिणी] सीता, जानकी (पउम ४६, ५७) ।

राच } [रूपे वै] देखो राय = राजन् (हे राचि°) ४, ३२५, ३०४, प्राप्र) ।

राज देखो राय = राजन् (हे ४, २६७, पि १६८) ।

राजस वि [राजस] रजो-गुण-प्रधान, 'राज-सचित्तस्स पुरस्स' (कुप्र ४२८) ।

राडि बी [राटि] द्रुम, चिल्लाहट (सुल २, १५) ।

राडि बी [दे राटि] सग्राम, लडाई (दे ७, ४) ।

राढा बी [राढा] १ विभूषा (धर्मस १०१८, कप्प) । २ भयता (वज्जा १८) । ३ बगाल का एक प्रान्त । ४ बगाल देश की एक नगरी (कप्प) । °इत्त वि [°वत्] भव्य आत्मा, 'गंजणरहिओ धम्मो राढाइत्ताण सपड्ड' (वज्जा १८) । °मणि पु [°मणि] काच-मणि (उत्त २०, ४२) ।

राण सक [वि + नम्] विशेष नमना । राणइ (?) (वात्वा १४६) ।

राण पु [राजन्] राणा, राजा (चड, सिरि ११४) ।

राणय पु [राजक] १ राणा, राजा (तो १५, सिरि १२३, १२५) । २ छोटा राजा (सिरि ६८६, १०४०) ।

राणिआ ? बी [राजिका, °ज्ञी] रानी, राज-राणी } पत्नी (कुमा ३, आवक ६३ टी, सिरि १२५, २६७) ।

राम सक [रमय्] रमण कराना । क. रामेयव्य (भक्त ८५) ।

राम पुं [राम] १ श्री रामचन्द्र, राजा दशरथ का बडा पुत्र (गा ३५, उप पृ ३७५, कुमा) । २ परशुराम (कुमा १, ३१) । ३ क्षत्रिय परिव्राजक-विशेष (औप) । ४ बलदेव, बलभद्र, वासुदेव का बडा भाई (पाप्र) । ५ वि. रमने-वाला (उप पृ ३७५) । °कण्ड पु [°कृष्ण] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (राज) । °कण्डा बी [°कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत्त २५) । °गिरि पुं [°गिरि] पर्वत-विशेष (पउम ४०, १६) । °गुत्त पुं [°गुप्त] एक राजपि (सुम १, ३, ४, २) । °देव पु [°देव] श्रीरामचन्द्र (पउम ४५, २६) । °पुत्त पुं [°पुत्र] एक जैन मुनि (अनु २) । °पुरी बी [°पुरी] अयोध्या नगरी (ती ११) । °रक्षिजा बी [रक्षिता]

तत्स मुहिआइ सेवगा जाया' (सिरि ४५७),
'जिरासासएणि कहमवि लद्धु हारेसि मुहियाए'
(सुपा १२४), 'मुह (? हि) याइ गिरह लक्ख'
(कुप्र २३७) ।

सुहु } अ [सुहुस्] बार बार (प्रासू २६,
सुहु } हे ४, ४४४, पि १८१) ।

सुहुत्त } पुन [सुहुत्त] दो घडी का काल,
सुहुत्ताग } अठतालीस मिनिट का समय (ठा
२, ४, हे २, ३०, औप, भग, कप्प, प्रासू
१०५, इक, स्वप्न ६७, आचा, ओष ५२१) ।

सुहुसुह देखो महुसुह (पात्र) ।

सुहुल देखो मुहल = मुखर (पात्र) ।

सुहुल देखो मुह = मुख (हे २, १६४, षड्,
भवि) ।

मूअ देखो मुक = मूक (हे २, ६६, आचा,
गडड; विपा १, १) ।

मूअ देखो मुअ = मृत, 'लजाइ कह ए मूओ
सेवंतो गामवाहलिय' (वजा ५४) ।

मअल } वि [दे मूक] मूक, वाक्-शक्ति
मूअल } से हीन (दे ६, १३७, सुर ११,
१५४) ।

मअल्लइअ } वि [दे मूकायित] मूक बना
मूअल्लिअ } हुआ (से ५, ४१, गडड,
पि ५६५) ।

मइंगलिया } देखो मुइंगलिया (उप १३४
मइंगा } टी, ओष ५५८) ।

मइल्लअ } वि [मृत] मरा हुआ,
मूयल्लिअ } 'एरिह वारेइ जणो तइआ
मइल्लओ, कहि व गओ ।
जाहे विसं व जाअं
सव्वगपहोलिएर पेम्म'
(गा ६६६ अ) ।

मड } पु [दे] अन्न का एक दीर्घ परिमाण,
मडे } 'इगमडलक्खसमहियमवि धन्न अत्थि
तायगिहे' (सुपा ४२७), 'तो वेहि ताडिओ
तो गाढं कएमूडउव्व लउडेहि' (घर्नवि
१४०) ।

मूड वि [मूड] मूड, मुग्ध (आप्र, कस, पउम
१, २८, महा, प्रासू ३६) । 'नइय न
[नयिक] श्रुत-विशेष, शास्त्र-विशेष
(प्रावम) । 'विसुइया जी [विसुचिआ]
रोग-विशेष (सुपा १३) ।

मूण न [मौन] चुप्पी (स ४७७, परह २,
४—पत्र १३१) ।

मूयग पु [दे मूयक] मेवाड देश मे प्रसिद्ध
एक प्रकार का तुण (परह २, ३—पत्र
१२३) ।

मूर सक [भञ्ज] भोगना, तोडना । मूरड
(हे ४, १०६) । मूका मूरोअ (कुमा) ।

मूराग वि [भञ्जक] भांगनेवाला, चुरनेवाला
(परह १, ४—पत्र ७२) ।

मूल न [मूल] १ जड (ठा ६, गडड, कुमा,
गा २३२) । २ निवन्धन, कारण (परह १,
३—पत्र ४२) । ३ आदि, आरम्भ (परह
२, ४) । ४ आद्य कारण (आचानि १, २,
१—गाथा १७३, १७४) । ५ समीप, पास,
निकट (ओष ३८४, सुर १०, ६) । ६ नक्षत्र-
विशेष (सुर १०, २२३) । ७ व्रतो का पुन
स्थापन (औप, पचा १६, २१) । ८ पिप्पली-
मूल (आचानि १, २, १) । ९ वशीकरण
आदि के लिए किया जाता ओषधि-प्रयोग,
'अमतमूलं वशीकरण' (प्रासू १४) । १०
आद्य, प्रथम, पहला । ११ मुख्य (सवोध ३,
भावम, सुपा ३६४) । १२ मूलघन, पुजी
(उत्त ७, १४, १५) । १३ चरण, पैर । १४
सूरण, कन्द-विशेष, शोल । १५ टीका आदि
से व्याख्येय ग्रन्थ (ससि २१) । १६ प्रायश्चित्त-
विशेष (विसे १२४६) । १७ पुन कन्द-
विशेष, मूली (अनु ६, धा २०) । 'छेज्ज
वि [छेज्ज] मूल नामक प्रायश्चित्त से नाश-
योग्य (विसे १२४६) । 'दत्ता जी [दत्ता]
कृष्ण-पुत्र शम्भ की एक पत्नी (अत १५) ।
'देव पु [देव] व्यक्ति-वाचक नाम, (महा,
सुपा ५२६) । 'देवी जी [देवी] लिपि-
विशेष (विसे ४६४ टी) । 'नायग पु
[नायक] मन्दिर की अनेक प्रतिमाओ मे
मुख्य प्रतिमा (सवोध ३) । 'प्पाडि वि
[उत्पादिन्] मूल को उखाडनेवाला (ससि
२१) । 'विंवि न [विन्वि] मुख्य प्रतिमा
(सवोध ३) । 'राय पु [राज] गुजरात
का चौलुक्य-वंशीय एक प्रसिद्ध राजा (कुप्र
४) । 'वत वि [वत्] मूलवाला (औप,
याया १, १) । 'सिरि जी [श्री] शम्भ-
कुमार की एक पत्नी (अत १५) ।

मूला } न [मूलक] १ कन्द-विशेष, मूली,
मूलिय } मुरई (परह १, जी १३) । २
शाक-विशेष (पव १५४, कुमा) ।

मूलगत्तिआ जी [मूलगर्तिका] मूले—मूली
की पतली फाँक (वस ५, २, २३) ।

मूलवेलि जी [दे मूलवेलि] घर के छपर
का आचार-भूत-स्तम्भ-विशेष (आचा २, २,
३, १ टी, पव १३३) ।

मूलिगा जी [मूलिका] ओपधि विशेष (उप
६०३) ।

मूलिय न [मौलिक] मूलघन, पुजी (उत्त ७,
१६, २१) ।

मूलिल्ल वि [मूल, मौलिक] प्रधान, मुख्य,
'मूलिल्लवाहणे' (सिरि ४२३) ।

मूलिल्ल वि [मूलवत्] मूलघनवाला, पुजी-
वाला, 'अत्थि य देवदत्ताए गाढाणुरत्तो
मूलिल्लो मित्तसेणो अयलनामा सत्यवाहयुत्तो'
(महा) ।

मूली जी [मूली] ओषधि विशेष, वशीकरण
आदि के कार्य मे लगती ओषधि (महा) ।

मूस देखो मुस = मुप । मूइइ (ससि ३६) ।

मूसग } पु [मूपक, मूपिक] मूसा, चूहा
मूसय } (उव, सुर १, १८, हे १, ८८,
पड, कुमा) ।

मूसरि वि [दे] भग्न, भांगा हुआ (दे ६,
१३७) ।

मूसल वि [दे] उपचित्त (दे ६, १३७) ।

मूसल देखो मुसल = मुसल (हे १, ११३,
कुमा) ।

मूसा देखो मुसा (हे १, १३६) ।

मूसा जी [मूपा] मूस, चातु गालने—गलाने का
पात्र (कप्प, आरा १००, सुर १३, १८०) ।

मूसा जी [दे] लघु द्वार, छोटा दरवाजा (दे
६, १३७) ।

मूसाअ न [दे] ऊपर देखो (दे ६, १३७) ।

मूसिय देखो मूसय (आचा) । 'रि पु
[रि] मार्जार, बिल्ला (आचा) ।

मे अ [मे] १ मेरा । २ मुम्मे (स्वप्न १५,
ठा १) ।

मेअ पु [मेद] १ अनार्य देय-विशेष (इक) ।
२ एक अनार्य मनुष्य-जाति (परह १, १—
पत्र १४) । ३ पुंजी, चाण्डाल (सम्पत्त
१७२) । ४ मेदे (सम्पत्त १७२) ।

रायाण देखो राय = राजन्, (हे ३, ५६, पङ्.) ।
 राळ पुन [राळ, °क] धान्य-विशेष,
 राळग एक प्रकार की कणु (सूत्र २, २,
 राळ्य ११, ठा ७—पत्र ४०५, पिङ १६२, वजा ३०) ।
 राळा छी [दे] प्रियग्रु, मालकांगनी (दे ७, १) ।
 राव सक [दे] आर्द्र करना। भवि रावेहिति (विसे २४६ ठो) ।
 राव देखो रज = रज्य् । रावेद (हे ४, ४६) । हेरु राविउ (कुमा) ।
 राव सक [रावय] पुकारना, आह्वान करना। वक्र रावेत (भौष) ।
 राव पु [राव] १ रोला, कलकल (पात्र) । २ पुकार, आवाज (सुपा ३४८, कुमा) ।
 रावण पु [रावण] १ एक स्वनाम-प्रसिद्ध लका-पति (पि ३६०) । २ गुल्म-विशेष (पण १—पत्र १२) ।
 राविअ वि [रञित] रेंगा हुआ (दे ७, ५) ।
 राविअ वि [दे] आस्वादि (दे ७, ५) ।
 रास पु [रास, °क] एक प्रकार का नृत्य, रासग जिसमे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते नाचते शोर गान करते-करते मडलाकार फिरना होता है (दे २, ३८, पात्र, वजा १२२, सम्मत १४१, धर्मवि ८१) ।
 रासभ देखो रासह (सुर २, १०२) ।
 रासय देखो रामग (सुर १, ४६, सुपा ५०, ४३३) ।
 रासह पुत्री [रासभ] गर्दभ, गदहा (पात्र, प्राप्र, रभा) । छी. °ही (काल) ।
 रासाणदिअय न [रासानन्दितक] छन्द-विशेष (मजि १२) ।
 रासानुद्धय पु [रासानुद्धयक] छन्द-विशेष (मजि १०) ।
 रासि देजो रसि (ससि १७) ।
 रासि पु छी [राशि] १ समूह, टग, डेर (भोष ४०७, भोष, सुर २, ५, कुमा) । २ ज्योतिष्क-प्रसिद्ध मेष आदि बारह राशि (विचार १०६) । ३ गणित विशेष (ठा ८, ३) ।

राह पु [राघ] १ वैशाख मास । २ वसन्त ऋतु (से १, १३) । ३ एक जैन आचार्य (उप २८५, सुख २, १५) ।
 राह पु [दे] १ दयित, प्रिय । २ वि निरन्तर । ३ शोभित । ४ सनाथ । ५ पलित, सफेद केशवाला (दे ७, १३) । ६ रुचिर, सुन्दर (पात्र) ।
 राहअ पु [राघव] १ रघुवश मे उत्पन्न राहव (उत्तर २०) । २ श्रीरामचन्द्र (से १२, २२, १, १३, ४७) ।
 राहा छी [राधा] १ वृन्दानन की एक प्रधान गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी (वज्जा १२२, पिग) । २ राधावेश मे रखी जाती पुतली (उप पृ १३०) । ३ शक्ति-विशेष । ४ करण का पालन करनेवाली माता (प्राङ् ४२) । 'मडव पुं [मण्डप] जहाँ पर राधावेश किया जाय वह स्थान (सुपा २६६) । 'वेह पु [वेध] एक तरह की वेध-क्रिया, जिसमे चक्रकार घूमती पुतली की वाम चक्षु बँधी जाती है (उप ६३५, सुपा २५५) ।
 राहिआ } छी [राधिका] ऊपर देखो (गा राही ८६, हे ४, ४४२, प्राङ् ४२) ।
 राहु पु [राहु] १ अह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८, पात्र) । २ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज्ज २०) । ३ विक्रम की पहली शताब्दी के एक जैन आचार्य (पत्रम ११८, ११७) ।
 राहुहय न [राहुहत] जिसमे सूर्य और चन्द्र का ग्रहण हो वह नक्षत्र (वव १) ।
 राहेअ पुं [राधेय] राधा-पुत्र, करण (गउड) ।
 रि अ [रे] सभाषण-सूचक अव्यय (तंदु ५०, ५२ ठो) ।
 रि सक [र] गमन करना । कर्म अण्णए (विसे १३६६) ।
 रिअ सक [री] गमन करना । रियइ, रियति, रिए (सूत्र २, २, २०, सुपा ४४५, उत २४, ४) । वक्र रियत (पत्रम २८, ४) ।
 रिअ सक [प्र + विश] प्रवेश करना, पैठना । रिअइ (हे ४, १८३, कुमा) ।
 रिअ न [रिअत] १ गमन, 'पुरओ रिय सोह-मार्ये' (भग) । २ सत्य (भग ८, ७) ।
 रिअ वि [दे] सून, काटा हुआ (पङ्) ।

रिउ देखो उउ (हे १, १४१, कुमा, पव १४१) ।
 रिउ वि [रिउ] १ सरल, सीधा (सुपा ३४६) । २ न विशेष पदार्थ, गानान्य-मिन्न वस्तु (पव २७०) । 'सुन पुं [भून्] नय-विशेष (विसे २२३१, २६०८) । देखो उउजु ।
 रिउ पु [रिपु] शत्रु, वैरी, दुश्मन (सुर २, ६६, कुमा) । 'महण पु [मथन] राक्षस-वश का एक राजा (पत्रम ५, २६३) ।
 रिउ छी [रिउच] वेद का नियत अक्षर-पादवाला अक्ष । 'वेर पु [नेन्] एक वेद-ग्रंथ (गाया १, ५, कप्प) ।
 रिखण न [रिखण] सर्पण, गति, चाल (पत्रम २५, १२) ।
 रिखि वि [रिखिन्] चलनेवाला, 'गिद्धाव-रखि हद्दए (?गिद्धु वर रिखी हद्दए)' (पिङ ४७१) ।
 रिग देखो रिग । रिगइ, रिगए (हे ४, २५६ टि, षड्, पिग) । वक्र. रिगात (हास्य १४६) ।
 रिगण न [रिगण] चलना, सर्पण (पव २) ।
 रिगणी छी [दे] वल्लो-विशेष, कण्टकारिका, गुजराती मे 'रिगणी' (दे २, ४, उर २, ८) ।
 रिगिअ न [दे] भ्रमण (दे ७, ६) ।
 रिगिअ न [रिगित] १ रेंगना, कच्छप की तरह हाथ-के बल चलना । २ रुद्र-नन्दन का एक बोध (ग्रमा २४) ।
 रिगिसिया छी [दे] वाद्य-विशेष (राज) ।
 रिङ्ग (अप) देखो रिचङ्ग = ऋक्ष (भवि) ।
 रिङ्गोली छी [दे] पक्षि, श्रेणी (दे ७, ७, सुर ३, ३१, विसे १४३६ ठो, पात्र, चेइय ४४, सम्मत १८८, धर्मवि ३७, भवि) ।
 रिङ्गो छी [दे] कन्याप्राया, कन्या की तरह का फटा हुआ आच्छादन-वस्त्र (दे ७, ५) ।
 रिक्क वि [दे] स्तोक, थोडा (दे ७, ६) ।
 रिक्क देखो रिक्त = रिक्त (आवा, पात्र, पत्रम ८, ११८, सुपा ४२२, चउ ३६) ।
 रिक्किअ वि [दे] शटित, सडा हुआ (दे ७, ७) ।
 रिक्ख अक [रिङ्ख] चलना । वक्र. 'गिरिख अचिछन्मपकळो अतरिक्खे रिक्खतो नखिखजइ' (कुप्र ६७) ।

मेलाय अक [मिल्] एकत्रित होना, 'पडि-
निकलमिता एगयभो मेलायति' (भग)। सङ्ग
मेलायित्ता (भग)। कृ मेलाइयव्व (शोधभा
२२ टी)।

मेलाव देखो मेखव। मेलावइ (भवि)।

मेलाव पुन [मेल] १ मिलाप, संगम, मिलन
(सुपा ४६६), 'निच्च चिय मेलाव सुमग्ग-
निरयाण अइडुलह' (सट्टि १४३)।

मेलावग देखो मेलग (आत्महि १६)।

मेलावड (अप) देखो मेलय, 'मणवल्लहमेला-
वडउ पुत्तहि लब्भइ एट्ट' (सिरि ७३)।

मेलावय देखो मेलवग (सुपा ३६१, भवि)।

मेलाविअ वि [मेलित] मिलाया हुआ, इकट्ठा
किया हुआ (से १०, २८)।

मेलिअ वि [मिलित] मिला हुआ (ठा ३,
१ टी—पत्र ११६, महा, उव),

'एवं सुलीलवतो असीलवतेहि मेलिअो सतो।
पावेइ पुणपरिहाणी मेलणुत्ताणुसणेण'
(प्रासू ३५)।

मेली जी [दे] संकति, जन-समूह का एकत्रित
होना, मेला (दे ६, १३८)।

मेलीण देखो मिलीण (पउम २, ६), 'अरणो-
एणकडकवतरपेसिअमेलीणदिट्ठिपसराइ' (गा
६६६, ७०२ अ)।

मेल्ल देखो मिल्। मेल्लइ (हे ४, ६१), मेल्लेमि
(कुप्र १६)। वड्ठ मेल्लत (महा)। सङ्ग-
मेल्लाव, मेल्लेपिणु (अप) (हे ४, ३५३,
पि ५८८)। कृ मेल्लियव्व (उप ५५५)।

मेल्लण न [मोचन] छोडना, परित्याग (प्रासू
१०२)।

मेल्लाविय वि [मोचित] छुडनाया हुआ (सुर
८, ६८, महा)।

मेव देखो एव (पि ३३६)।

मेवाड } देखो मेअवाडय (नी १५, मोह
मेवाड } ८८)।

मेस पु [मेप] १ मेंडा, भेड, गाडर (सुर ३,
५३)। २ राशि-विशेष (विचार १०६, सुर
३, ५३)।

मेह पु [मेघ] १ अन्न, जलघर (श्रीप)। २
कालायुध, सुग्गो धूप-द्रव्य विशेष (से ६,
४६)। ३ भगवान् सुमतिनाथ का पिता (सम
१५०)। ४ एक जैन महर्षि (अत १८)। ५

राजा श्रेणिक का एक पुत्र (आया १, १—
पत्र ३७)। ६ एक देव-विमान (देवेन्न
१३२)। ७ छन्द-विशेष (पिंग)। ८ एक
वरिष्क-पुत्र (सुपा ६१७)। ९ एक जैनमुनि
(कप्प)। १० देव-विशेष (राज)। ११ मुस्तक,
श्रीषधि-विशेष, मोथा। १२ एक राक्षस।

१३ राग-विशेष (प्राप्र, हे १, १८७)। १४
एक विद्याधर-नगर (इक)। १५ कुमार पु
[कुमार] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (आया
१, १, उव)। १६ उच्चाण पु [ध्यान] राक्षस-
वंश का एक राजा, एक लकापति (पउम ५,
२६६)। १७ नाअ पु [नाद] रावण का एक
पुत्र (से १३, ६८)। १८ पुर न [पुर]

वैताल्य पर्वत के दक्षिण श्रेणी का एक नगर
(पउम ६, २)। १९ सुइ पु [सुख] १ देव-
विशेष (राज)। २ एक अन्तर्द्वीप। ३ अन्त-
र्द्वीप-विशेष का निवासी मनुष्य (ठा ४, २—
पत्र २२६, इक)। ४ रव न [रव] विन्ध्य-
स्थली का एक जैन तीर्थ (पउम ७७, ६१)।

५ वाहण पु [वाहन] १ राक्षस वंश का
आदि पुरुष, जो लका का राजा था (पउम
५, २५१)। २ रावण का एक पुत्र
(पउम ८, ६४)। ३ सीह पु [सिंह]

विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४३)।
देखो मेघ।

मेह पु [मेह] १ सेचन (सूअ १, ४, २,
१२)। २ रोग-विशेष, प्रमेह (आ २०, सुख
१, १५)।

मेहकरा देखो मेघकरा (इक)।
मेहच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १३६)।
मेहण न [मेहन] १ भरन, टपकना। २
प्रसवण, सूत्र, 'महुमेहण (आचा १, ६,
१, २)। ३ पुरुष-लिंग (राज)।

मेहणि वि [मेहनिन्] भरनेवाला (आचा)।

मेहर पु [दे] ग्राम-प्रवर, गाव का मुखिया
(दे ६, १२१, सुर १५, १६८)।

मेहरि पुत्री [दे] काष्ठ-कोट, धुन (जी १५)।

मेहरिया } जी [दे] गानेवाली स्त्री (सुपा
मेहरी } ३६४)।

मेहलय पुं व. [मेखलरु] देश-विशेष (पउम
६८, ६६)।

मेहला जी [मेखला] काञ्ची, करवनी
(प्राप्र, पएह १, ४, श्रीप, गा ४६३)।

मेहलिज्जिया जी [मेखलिया] एक जैन
मुनि-शाखा (कप्प)।

मेहा जी [मेघा] एक इद्राणी, चमरेन्द्र की
एक अग्र-महिया (ठा ५, १—पत्र ३०२,
इक)।

मेहा जी [मेघा] बुद्धि, मनीषा, प्रज्ञा (सम
१२५, से १, १६, हात्य १२५)। २ अर वि
[कर] १ बुद्धि-वर्धक। २ पुं. छन्द विशेष
(पिंग)।

मेहा जी [मेघा] अग्रग्रह-ज्ञान (एदि १७४)।
मेहावई देखो मेघ वई (इक)।

मेहावणण न [मेघावणे] एक विद्याधर-
नगर (इक)।

मेहावि वि [मेघाविन्] बुद्धिमान, प्राज्ञ
(ठा ५, ३, आया १, १, आचा, कप्प,
श्रीप, उप १४२ टी, कुप्र १४०, धर्मवि
६८)। जी णी (नाट—शकु ११६)।

मेहि देखो मेडि (से ६, ४२)।

मेहि वि [मेहिन्] प्रसवण करनेवाला,
'महुमेहिण' (आचा)।

मेहिय न [मेधिक] एक जैन मुनि-कुल
(कप्प)।

मेहिल पुं [मेधिल] भगवान् पारवनाय के
वंश का एक जैन मुनि (भग)।

मेहुण } न [मेथुण] रति-क्रिया, समोग
मेहुणय } (सम १०, पएह १, ४, उवा,
श्रीप, प्रासू १७६, महा)।

मेहुणय पु [दे] फूला का लडका (दे ६,
१४८)।

मेहुणिअ पु [दे] मामा का लडका (वृह ४)।

मेहुणिआ जी [दे] १ साली, भार्या की
बहिन (दे ६, १४८)। २ मामा की लडकी
(दे ६, १४८, वृह ४)।

मेहुन्न देखो मेहुण, 'हिंसानियचोरिन्ने मेहुन्न-
परिग्गहे य निसिभत्ते' (आघ ७८७)।

मेरेअ न [मैरेय] मय-विशेष (मान १७७)।

मो अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय—१
अवधारण, निरचय (सूर्यानि ८६, आचक
१२५)। २ पाद-वृत्ति (पउम १०२, ८६,
धर्मस ६४५, आचक ६०)।

रीड सक [मण्डय्] अलकृत करना। रीडइ (हे ४, ११५)।

रीडण न [मण्डन] अलकरण (कुमा)।

रीड खीन [दे] अलगण, घनावर (दे ७, न)। खी ०डा (पात्र, धम्म ११ टी, पचा २, न, वृह १)।

रीण वि [रीण] १ क्षरित, झुत। २ पीडित (अत्त २)।

रीर अक [राज्] शोभना, चमकना, दीपना। रीरइ (हे ४, १००)।

रीरिअ वि [राजित] शोभित (कुमा)।

रीरी खी [रीरी] चातु-विशेष, पीतल (कुप्र ११, सुपा १४२)।

रु खी [रूज्] रोग, बीमारी, 'अरु (? ङ) ज्वसणो' (तदु ४६)।

रुअ अक [रूइ] रोना। रुअइ (षड्, सखि ३६, प्राक ६८, महा)। भवि रोच्छ (हे ३, १७१)। वरु रुअ, रुअत, रुयमाण (गा २१६, ३७७, ४००, सुर २, ६६, ११२, ४, १२६)। सकु रोत्तूप (कुमा, प्राक ३४)। हेकू रोत्तु (प्राक ३४)। क. रोत्तञ्च (हे ४, २१२, से ११, ६२)। प्रयो रुयवेइ (महा), रुआवति (पुफ ४४७)।

रुअ न [रत्त] शब्द, आवाज (से १, २८, णाया १, १३, पव ७३ टी)।

रुअ देखो रुअ = रूप (इक)।

रुअ देखो रुअ = (दे) (श्रीप)।

रुअती खी [रुदती] वल्ली-विशेष (सवोष ४७)।

रुअस देखो रुअस (इक)।

रुअग पु [रुचक] १ कान्ति, प्रभा (परह १, ४—पत्र ७८, श्रीप)। २ पर्वत-विशेष, 'नगुत्तमो होइ पच्चमो व्यणो' (दीव)। ३ द्वीप-विशेष (दीव)। ४ एक समुद्र (सुज ६६)। ५ एक विमानावास—देव-विमान (देवेन्द्र १३२)। ६ न इन्द्रो का एक आभाय्य विमान (देवेन्द्र २६३)। ७ रत्न-विशेष (उत्त ३६, ७६, सुख ३६, ७६)। ८ रुचक पर्वत का पांचवां कूट (दीव)। ९ निपय पर्वत का आठवां कूट (इक)। १० प्यभ न [प्रभ] महाहिमवत पर्वत का एक कूट

(ठा २, ३)। १ वर पु [वर] १ द्वीप-विशेष (सुज १६)। २ पर्वत-विशेष (परह २, ४—पत्र १३०)। ३ समुद्र-विशेष। ४ रुचकवर समुद्र का एक अविष्ठाता देव (जीव ३—पत्र ३६७)। १ वरभइ पु [वरभद्र] रुचकवर द्वीप का अविष्ठातक एक देव (जीव ३—पत्र ३६६)। १ वरमहाभइ पु [वरमहाभद्र] वही अर्थ (जीव ३)। १ वरमहावर पु [वरमहावर] रुचकवर समुद्र का एक अविष्ठाता देव (जीव ३)। १ वरावभास पु [वरावभास] १ द्वीप-विशेष। २ समुद्र-विशेष (जीव ३)। १ वरावभासभइ पु [वरावभासभद्र] रुचकवरावभास द्वीप का एक अविष्ठाता देव (जीव ३)। १ वरावभासमहाभइ पु [वरावभासमहाभद्र] वही अर्थ (जीव ३)। १ वरावभासमहावर पु [वरावभासमहावर] रुचकवरावभास नामक समुद्र का एक अविष्ठाता देव (जीव ३)। १ वरावभासवर पु [वरावभासवर] वही अर्थ (जीव ३—पत्र ३६७)। १ वरोद पु [वरोद] समुद्र-विशेष (सुज १६)। १ वरोभास देखो वरावभास (सुज १६)। १ वई खी [वती] एक इन्द्राणी (णाया २—पत्र २५२)। १ ोद पु [ोद] समुद्र-विशेष (जीव ३—पत्र ३६६)।

रुअगिंद पु [रुचकेन्द्र] पर्वत-विशेष (सम ३३)।

रुअगुत्तम न [रुचकोत्तम] कूट विशेष (इक)।

रुअण न [रोदन] रुदन, रोना (सवोष ४)।

रुअय देखो रुअग (सम ६२)।

रुअरुइआ खी [दे] उत्कण्ठा (दे ७, न)।

रुआ खी [रूज्] रोग, बीमारी (उच, धर्मस ५६८)।

रुआविअ वि [रोदित] रुलाया हुआ (गा ३८६)।

रुइ खी [रुचि] १ कान्ति, प्रभा, तेज (सुर ७, ४, कुमा)। २ अनुराग, प्रेम (जो ५१)। ३ भासक्ति (प्रासु १६६)। ४ स्थहा, अभिलाप। ५ शोभा। ६ बुभुक्षा, खाने की इच्छा। ७ गौरचना (पड्)।

रुइअ वि [रुचित] १ अश्रीष्ट, पसंद (सुर ७-२४३, महा)। २ पुन विमानावास-विशेष, एक देव-विमान (देवेन्द्र १३२)।

रुइअ देखो रुण = वदित (स १२०)।

रुइर वि [रुचिर] १ सुन्दर, मनोरम (पात्र)। २ दीप्त, कान्ति-युक्त (तदु २०)। ३ पुन. एक विमानेन्द्रक, देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३१)।

रुइर वि [रोदित्] रोनेवाला। खी. ०री (पि ५६६, गा २१६ अ)।

रुइल वि [रुचिर, ०ल] १ शोभन, सुन्दर (श्रीप, णाया १, १ टी, तदु २०)। २ दीप्त, चमकता हुआ (परह १, ४—पत्र ७८, सुअ २, १, ३)। ३ पुन. एक देव-विमान (सम ३८)।

रुइल्ल न [रुचिर, रुचिमत्] एक देव-विमान (सम १५)। ०कत न [०कान्त] एक देव-विमान (सम १५)। ०कूड न [०कूट] एक देव-विमान (सम १५)। ०कम्य न [०ध्वज] देवविमान-विशेष (सम १५)। ०प्यभ न [०प्रभ] एक देवविमान (सम १५)। ०लेस न [०लेश्य] एक देवविमान (सम १५)। ०वण्ण न [०वर्ण] देवविमान-विशेष (सम १५)। ०सिंग न [०शृङ्ग] एक देवविमान (सम १५)। ०सिट्टु न [०सृष्ट] एक देवविमान (सम १५)। ०वत्त न [०वत्त] एक देवविमान (सम १५)।

रुइल्लुत्तरवडिंसग न [रुचिरोत्तरावत्तक] एक देवविमान (सम १५)।

रुच सक [रुच्च] रुई से उसके बीज को अलग करने की क्रिया करना। वरु रुचत (पिंड ५७४)।

रुचण न [रुच्चन] रुई से कपास को अलग करने की क्रिया (पिंड ५८८)।

रुचणी खी [दे] धरट्टी, दलने का पत्थर-यन्त्र (दे ७, न)।

रंज अक [रु] आवाज करना। रुजइ (हे ४, ५७, षड्)।

रंजग पु [दे रुञ्ज रु] वृक्ष, पेड़, गाछ 'कुहा महीरुहा वच्छा रोवणा रुजगाई अ' (दमनि १)।

मेलाय अक [मिल्] एकनित होना, 'पडि-
निकखमिता एगयओ मेलायति' (अप)। सक्र.
मेलायित्ता (अप)। कृ मेलाइयन्व (अप) भा
२२ टी)।

मेलाय देखो मेलाय। मेलाय (अप)।

मेलाय पुन [मेल] १ मिलाप, सगम, मिलन
(सुपा ४६६), 'निच्च चिय मेलाय सुमग्ग-
निरयाण यद्धुबह' (सिद्धि १४३)।

मेलायग देखो मेलाय (आत्महि १६)।

मेलायड (अप) देखो मेलाय, 'मणवल्लहमेला-
वडउ पुत्तिहि लब्भइ एहु' (सिद्धि ७३)।

मेलायय देखो मेलायग (सुपा ३६१, अप)।

मेलायवि अपि [मेलित] मिलाया हुआ, इकट्ठा
किया हुआ (से १०, २८)।

मेलायवि [मिलित] मिला हुआ (अ ३,
१ टी—पत्र ११६, महा, उव),

'एव सुलीलवती असीलवतोहि मेलिओ सतो।
पावेइ गुणपरिहाणी मेलणवोसाणुसणेण'
(प्रासू ३५)।

मेली की [दे] संज्ञति, जन-समूह का एकनित
होना, मेला (दे ६, १३८)।

मेलीण देखो मिलीण (पउम २, ६), 'अणो-
एणकडकखतरपेसिअमेलीणविट्ठिपसराइ' (गा
६६६, ७०२ अ)।

मेला देखो मिला। मेलाय (हे ४, ६१), मेलेमि
(कुप्र १६)। वड. मेलाय (महा)। सक्र.
मेलाय, मेलेपिणु (अप) (हे ४, ३५३,
पि ५८८)। कृ मेलायन्व (उप ५५५)।

मेलाय न [मोचन] छोड़ना, परित्याग (प्रासू
१०२)।

मेलायवि अपि [मोचित] छुड़वाया हुआ (सुर
८, ६८, महा)।

मेलाय देखो एव (पि ३३६)।

मेलाड } देखो मेलायडय (ती १५, मोह
मेलाड } ८८)।

मेलाय पुं [मेप] १ मेला, मेला, गाढर (सुर ३,
५३)। २ राशि विशेष (विचार १०६, सुर
३, ५३)।

मेलाय पुं [मेध] १ मन्त्र, जलधर (अप)। २
कालगुरु, सुगरी घृण-द्रव्य विशेष (से ६,
५६)। ३ मगनाय सुमतिनाय का पिता (सम
२५०)। ४ एक जैन महर्षि (अत १८)। ५

राजा श्रेणिक का एक पुत्र (आया १, १—
पत्र ३७)। ६ एक देव-विमान (देवेन्द्र
१३२)। ७ छन्द-विशेष (पिण)। ८ एक
वणिक-पुत्र (सुपा ६१७)। ९ एक जैनमुनि
(कप्य)। १० देव-विशेष (राज)। ११ मुस्तक,
शोषवि-विशेष, मोथा। १२ एक राक्षस।
१३ राग-विशेष (प्राप्र, हे १, १८७)। १४
एक विद्याधर-नगर (इक)। 'कुमार पु
[कुमार] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (आया
१, १, उव)। 'जम्भाण पु' [जम्भान] राक्षस-
वश का एक राजा, एक लकापति (पउम ५,
२६६)। 'णाअ पु' [नाद] रावण का एक
पुत्र (से १३, ६८)। 'पुर न' [पुर] १
वैताल्य पर्वत के दक्षिण श्रेणो का एक नगर
(पउम ६, २)। 'मुह पुं' [मुख] १ देव-
विशेष (राज)। २ एक अन्तर्द्वीप। ३ अन्त-
र्द्वीप-विशेष का निवासी मनुष्य (अ ४, २—
पत्र २२६, इक)। 'रव न' [रव] विन्ध्य-
स्यली का एक जैन तीर्थ (पउम ७७, ६१)।
'वाहण पु' [वाहन] १ राक्षस वश का
आदि पुरुष, जो लका का राजा था (पउम
५, २५१)। २ रावण का एक पुत्र
(पउम ८, ६४)। 'सोह पुं' [सिंह]
विद्याधर-वश का एक राजा (पउम ५, ४३)।
देखो मेध।

मेह पुं [मेह] १ लेचन (सूत्र १, ४, २,
१२)। २ रोग-विशेष, प्रमेह (आ २०, सुल
१, १५)।

मेहकरा देखो मेधकरा (इक)।

मेहच्छीर न [दे] जल, पानी (दे ६, १३६)।

मेहण न [मेहन] १ भरन, टपकना। २
प्रसवण, सूत्र, 'महमेहण (आचा १, ६,
१, २)। ३ पुरुष-लिंग (राज)।

मेहणि वि [मेहनिच] भरनेवाला (आचा)।

मेहर पुं [दे] ग्राम-प्रवर, गाव का मुखिया
(दे ६, १२१, सुर १५, १६८)।

मेहरि पुत्री [दे] काष्ठ-कीट, पुन (जो १५)।

मेहरिया } की [दे] गानेवाली की (सुपा
मेहरी } ३६४)।

मेहलय पुं व. [मेरालक] देश-विशेष (पउम
६८, ६६)।

मेहला की [मेखला] काञ्ची, करवनी
(प्राप्र, पएह १, ४, औप, गा ४६३)।

मेहलिज्जिया की [मेरालिया] एक जैन
मुनि-शाखा (कप्य)।

मेहा की [मेघा] एक इद्राणी, चमरेन्द्र की
एक अग्र-महिषी (अ ५, १—पत्र ३०२,
इक)।

मेहा की [मेघा] बुद्धि, मनीषा, प्रज्ञा (सम
१२५, से १, १६, हास्य १२५)। 'अर वि
[कर] १ बुद्धि-वर्धक। २ पु छन्द विशेष
(पिण)।

मेहा की [मेघा] अग्रग्रह-ज्ञान (एवि १७४)।

मेहावई देखो मेघ वई (इक)।

मेहायण न [मेघायण] एक विद्याधर-
नगर (इक)।

मेहायि वि [मेघायिन्] बुद्धिमान्, प्राज्ञ
(अ ५, ३, आया १, १, आचा, कप्य,
औप, उप १४२ टी, कुप्र १४०, धर्मवि
६८)। की 'णी (नाट—शकु ११६)।

मेहि देखो मेडि (से ६, ४२)।

मेहि वि [मेहिन] प्रसवण करनेवाला,
'महमेहिय' (आचा)।

मेहिय न [मेधिक] एक जैन मुनि-कुल
(कप्य)।

मेहिल पु [मेधिल] भगवान् पारवनाय के
वश का एक जैन मुनि (अप)।

मेहुण } न [मेहुण] रति-क्रिया, समोप
मेहुणय } (सम १०, पएह १, ४, उवा,
औप, प्रासू १७६, महा)।

मेहुणय पु [दे] फूफा का लडका (दे ६,
१४८)।

मेहुणिअ पु [दे] मामा का लडका (वृह ४)।

मेहुणिआ की [दे] १ साली, भार्या की
वहिन (दे ६, १४८)। २ मामा की लडकी
(दे ६, १४८, वृह ४)।

मेहुन्न देखो मेहुण, 'हिंसावियनोरित्ते महुन्न-
परिणहे य निम्भित्तं' (औप ७८०)।

मेरेअ न [मेरेय] मन्त्र-विशेष (मान १७७)।

मो म इन अपों का सूचक शब्द—१
अन्धारण, निरचय (सूमी ८६, श्रावक
१२५)। २ पाद-पूति (पउम १०२, ८६,
पमस ६४५, आनक ६०)।

रूप-रूढ

रूप न [रूप्य] चांदी, रजत (श्रीपु. सुर ३, ६, कप्पु)। कूड पु [कूट] रक्मि पर्वत का एक कूट (राज)। कूलपवाय पुं [कूलप्रपात] द्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७३)। कूला स्त्री [कूला] १ एक महानदी (ठा २, ३—पत्र ७२, ८०, सम २७, इक)। २ एक देवी। ३ रक्मि पर्वत का एक कूट (ज ४)। मय वि [मय] चांदी का बना हुआ (शाया १, १—पत्र ५२, कुमा)। भास पुं [भास] एक ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८)। रूप वि [रूप्य] ह्मा का, चांदी का (शाया १, १—पत्र २४, उर ८, ४)।

रूपय देखो रूप = रूप्य, 'रूपय रयय' (पात्र, महा)।

रूपि पुं [रुक्मिन्] १ कौरिडन्य नगर का एक राजा, रक्मिणी का भाई (शाया १, १६—पत्र २०६, कुमा, रक्मि ४२)। २ कुशाल देश का एक राजा (शाया १, ८—पत्र १४०)। ३ एक वर्षार-पर्वत (ठा २, ३—पत्र ६६, सम १२, ७२)। ४ एक ज्योतिष्क महा-ग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८)। ५ देव विशेष (ज ४)। ६ रक्मि पर्वत का एक कूट (ज ४)। ७ वि सुवांवाला। ८ चांदी वाता (हे ४, ५२, ८६)। कूड पुन [कूट] रक्मि पर्वत का एक कूट (ठा २, ३, सम ६३)।

रूपिणी स्त्री [रुक्मिणी] १ द्वितीय वासुदेव की एक पटरानी (पत्रम २०, १८६)। २ श्रेष्ठिय वासुदेव की एक अग्र-महिषी (पत्रम २०, १८७, पडि)। ३ एक श्रेष्ठि-पत्नी (मुपा ३३४)।

रूपीभास पुं [रूप्यावभास] १ एक महाग्रह (नुज २०)। २ वि रजत की तरह चमकता (ज ४)।

रुभत } देवी रुध।
रुभमाण }

रुभिणी देखो रूपिणी (पड्)।

रुह चक [रुहाप्य] न्मान करना, मलिन करना। 'प-रुहाइ जस' (ने ३, ४)।

रु पु [रु] १ मृग विशेष (पत्रम ६, ५६, पए १, १—पत्र ७)। २ वनस्पति विशेष

(परण १—पत्र ३५)। ३ एक अनार्य देश। ४ एक अनार्य मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४)।

रुख अक [रुख्य] १ खूब आवाज करना। २ बारबार चिल्लाना। वक्क. रुखेंत (स २१३)।

रुल अक [रुल] लेटना। वक्क. रुलत, रुलित (परह १, ३—पत्र ४५, 'पडियगय-घडुनुरयं रुलनवरमुहडडसयाइन्' (धर्मवि ८०)।

रुलुधुल अक [रु] नीचे सांस लेना, निश्वास डालना। वक्क. रुलुधुलंत (भवि)।

रुव देखो रुअ = रुद। रुवइ (हे ४, २२६, प्राक ६८, सक्ति ३६, भवि, महा), रुवामि (कुप्र ६६)। कर्म रुवइ, रुविज्जइ (हे ४, २४६)।

रुवण न [रोदन] रोना (उप ३३५)।

रुवणा स्त्री. ऊपर देखो (शोधमा ३०)।

रुवणा स्त्री [रोवणा] आरोपणा, प्रायश्चित्त का एक वेद (वव १)।

रुविल देखो रुइल (श्रीप)।

रुवव देखो रुअ = रुद। रुवइ (सक्ति ३६, प्राक ६८)।

रुसा स्त्री [रोष] रोष, गुस्ता (कुमा)।

रुसिय देखो रुसिअ (पत्रम ५५, १५)।

रुइ अक [रुइ] १ उलपन होना। २ सक. घाव को सुखाना। रुइइ (नाट)। कर्म 'जेण विदारियट्टीवि खग्गाइपहारो इमीए पक्खालणीयएणपि पणइवेयण तक्खणा चैव रुअइ ति' (स ४१३)।

रुइ वि [रुइ] उलपन होनेवाला (आचा)।

रुइण न [रोघन] निवारण (वव १)।

रुइरुइ अक [रुइ] मन्द मन्द बहना, 'वामपि मुत्ति रुइरुइ वाउ' (भवि)।

रुइरुइय पु [रुइ] उलकण्डा (भवि)।

रुअ न [रुअ] रुई, तूल (दि ७, ६, कप्प, पव ८४, देवेन्द्र ३३२, धर्मस ६८०, मग, सवोध ३१)।

रुअ पु [रुप] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७)। ३ आकृति, आकार (गा १३२)। ४ वि सहय, तुल्य (दि ६, ४६)।

रुअत पुं [रुअन्त] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट नामक इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १)। रुअता स्त्री [रुअन्ता] १ भूतानन्द नामक इन्द्र को एक अग्र-महिषी (शाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी-महत्तरिका (राज)। रुपभ पु [रुप्रभ] पूर्णभद्र और विशिष्ट नामक एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७, १६८)। रुपभा स्त्री [रुप्रभा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अग्र-महिषी (शाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ६—पत्र ३६१)। देखो रुव = रूप (गड)।

रुअस पु [रुपाश] १-२ पूर्णभद्र और विशिष्ट इन्द्र का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७, १६८)।

रुअसा स्त्री [रुपाशा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अग्र-महिषी (शाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ६—पत्र ३६१)।

रुअग पुं [रुपक] १ रुपा (हे ४, रुअय ४२२)। २ पुं एक गृहस्थ (शाया २—पत्र २५२)। ३ ह्मा देवी का सिंहासन (शाया २—पत्र २५२)।

रुअसय न [रुवतसक] ह्मा देवी का भवन (शाया २)। रुसिरी स्त्री [रुश्री] एक गृहस्थ स्त्री (शाया २)। रुवई स्त्री [रुवती] भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (शाया २)। देखो रुवय = रूपक।

रुअरुइआ [रुइ] देखो रुअरुइआ (गड्)।

रुआ स्त्री [रुपा] १ भूतानन्द इन्द्र की एक अग्र-महिषी (शाया २—पत्र २५२)। २ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ४, १—पत्र १६८)।

रुआमाता स्त्री [रुपमाता] छन्द-विशेष (पिंग)।

रुआर वि रूपकार] मूर्ति बनानेवाला, 'मोत्तुमजोग्ग जोगे दलिए रुव करेइ रुआरो' (विसे १११०)।

रुआवई स्त्री [रुपवती] एक दिक्कुमारी देवी (ठा ४, १—पत्र १६८)।

रुड वि [रुड] १ परपरागत, रुडि-सिद्ध। २ प्रसिद्ध, 'रुडकमेण सव्वे नराहिवा तत्थ उवविट्ठा' (उप ६४८ टी)। ३ प्रयुक्त, तदुस्त (पात्र)।

र

रपु [र] मूर्ध-स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (सिरि १६६, पिंग) । 'गण पु' [गण] छन्द शास्त्र-प्रसिद्ध मध्य लघु अक्षरवाले तीन स्वरों का समुदाय (पिंग) ।

र अ पाद-पूरक अव्यय (हे २, २१७, कुमा) ।

र अ [दे] निश्चय-सूचक अव्यय (वसनि १, १५२) ।

रइ ली [रति] १ काम-क्रीडा, सुरत, मैथुन (से १, ३२, कुमा) । २ कामदेव की ली (कुमा) । ३ प्रीति, प्रेम, अनुराग (कुमा, सुपा ५११) । ४ कर्म-विशेष (कम्म २, १०) ।

५ भगवान् पद्मप्रभ की मुख्य शिष्या (पव ८) । ६ पु. भूतानन्द नामक इन्द्र का एक सेनापति (इक) । ७ अर, 'कर वि [कर] १ रति-जनक (गा ३२६) । २ पु. पर्वत-विशेष (परह १, ५, ठा १०, महा) । 'क्रीडा ली [क्रीडा] काम क्रीडा (महा) । 'केलि ली [केलि] वही अर्थ (काप्र २०१) ।

'घर न [गृह] सुरत-मन्दिर, विवास-गृह (पि ३६६ ए) । 'णाह, 'नाह पु [नाथ] कामदेव (कुमा, सुर ६, ३१) । 'पहु पु [प्रभु] वही अर्थ (कुमा) । 'पभा ली [प्रभा] किन्नर नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (इक, ठा ४, १—पत्र २०४) ।

'पिय पु [प्रिय] १ कामदेव (सुपा ७५) । २ एक इन्द्र । ३ किन्नर देवों की एक जाति (राज) । 'पिया ली [प्रिया] वानव्यन्त्रों के इन्द्र विशेष की एक अग्र महिषी (राया २—पत्र २५२) । 'भवण न [भवन] कामक्रीडा-गृह (महा) । 'मत वि [मत] १ राज-जनक । २ पु. काशदेव, कन्दर्प (तदु ४६) । 'मदिर न [मन्दिर] शयन-गृह (पाप्र) । 'रमण पु [रमण] कामदेव (सुपा ४, २८६, कप्प) । 'लभ पु [लभ] १ सुरत की प्राप्ति । २ कामदेव (से ११, ८) । 'वइ पु [पति] कामदेव (कुमा, सुपा २६२) । 'विद्धि ली [वृद्धि] विद्या-विशेष (पत्रम ७, १४४) । 'सुदरी ली [सुन्दरी] एक राज-कन्या (उप ७२८ टी) । 'सुहव

पु' [सुभग] कामदेव (कुमा) । 'सेणा ली [सेना] किन्नरों की एक अग्र-महिषी (इक, ठा ४, १—पत्र २०४) । 'हर न [गृह] शयन-गृह, सुरतमन्दिर (उप ६४८ टी, महा) ।

रइ पु [रवि] सूर्य, सूरज (गा ३४, से १, १४, ३२, कप्प) ।

रइ अ वि [रचित] बनाया हुआ, निर्मित (सुर ४, २४४, कुमा, औप, कप्प) ।

रइ अ वि [रचित] महल आदि की पीठ-भित्ति (अणु १५४) ।

रइ आव सक [रचय्] बनवाना । सक. रइआविअ (ती ३) ।

रइ गोल वि [दे] अभिलषित (दे ७, ३) ।

रइ गेली ली [दे] रति-तृष्णा (दे ७, ३) ।

रइ जत देखो रय = रचय् ।

रइ लख न [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १३, षड्) ।

रइ लख न [दे. रतिलक्ष] रति-सयोग, मैथुन (दे ७, १३) ।

रइ लिय वि [रजस्वल] रज से युक्त, रजवाला (पि ५६५) ।

रइ वाडिया देखो राय-वाडिआ, 'सामिय रइवाडियासमो' (सिरि १०६) ।

रई सर पुं [रतीश्वर] कामदेव, कन्दर्प (कुमा) ।

रउतागिया ली [दे] रोग-विशेष, पामा, बुजली (सिरि ३०६) ।

रउह देखो रोह = रौद्र, 'रउहडुहोहिं सखोह-गिजो' (यति ४२, भवि) ।

रउरव वि [रौरव] भयकर घोर । 'काल पु [काल] माता के उदर से पसार किया जाता समय-विशेष, 'नवमासहिं नियकुनखहिं धरियउ पुणु रउरवकालहो नोसरियउ' (भवि) ।

रउस्सल वि [रजस्वल] रजो-युक्त, वृत्ति-युक्त (भग ७, ७—पत्र ३०५) ।

रओ देखो रय = रजस् (पिंड ६ टी, सण) ।

रक वि [रक] गरीब, दीन (पिंग) ।

रंखोल अक [दोलय्] १ झूलना । २ हिलना, चलना, कांपना । रंखोलइ (हे ४, ४८, वज्जा ६४) ।

रंखोलिय वि [दोलित] कम्पित (गउड) ।

रंखोलिय वि [दोलित] झूलनेवाला (गउड, कुमा, पाप्र) ।

रंग अक [रङ्ग्] इधर-उधर चलना । वक्र. रगत (कप्प, पत्रम १०, ३१, परह १, ३—पत्र ५५) ।

रग सक [रङ्गय्] रंगना । कर्म रगिज्जइ (सवेव १७) । वक्र 'रायगिह वरनयरं वर-नय-रगत-मदिर अत्थि' (कुम्मा १८) ।

रग वि [राङ्ग] रंगा हुआ, रग कर बनाया हुआ (वसनि २, १७) ।

रग न [दे] रंग, रंगा, घातु-विशेष, सीसा (दे ७, १, से २, २६) ।

रग पु [रङ्ग] १ राग, प्रेम (सिरि ५१५) । २ नाट्यशाला, प्रेक्षा-भूमि (पाप्र, सुपा १, कुमा) । ३ युद्ध-मण्डप, जय-भूमि (धर्मस ७८३) । ४ सन्नाम, लडाईं (पिंग) । ५ रक्त वर्ण, लाली (से २, २६) । ६ वर्ण, रंग (भवि) । ७ रंगना, रंजन, रंग चढाना (गउड) । 'अ वि [दे] कुतूहल-जनक (से ६, ४२) । 'वालि ली [आवलि] रंगोली (चउपपन्न० पत्र ३२६ गा ७१४) ।

रंगण न [रङ्गन] १ राग, रंगना । २ पु. जीव, आत्मा (भग २०, २—पत्र ७७६) ।

रगिर वि [रङ्गित] चलनेवाला (सुपा ३) ।

रगिल वि [रङ्गवत्] रंगवाला (उर ६-२) ।

रज सक [रङ्गय्] १ रंग लगाना । २ खुशी करना । रजए, रजेइ (वज्जा १३६, हे ४, ४६) । कर्म रजिज्जइ (महा) । वक्र. रजत (सवे ३) । सक रजिऊण (पि ५८६) । क. रजियव्व (आत्वहि ६) ।

रजग वि [रजक] रंजन करनेवाला (रंगा) ।

रजण न [रङ्गन] १ रंगना (विसे २६६१) । २ खुशी करना, 'परचित्तरजणो' (उप ६८६

रेसणिआ } स्त्री [दे] १ करोटिका, एक
 रेसणी } प्रकार का कास्य-भाजन (पात्र,
 दे ७, १५) । २ अक्षि-निकोच (दे ७, १५) ।
 रेसम्मि देखो रेसम्मि, 'जो उण सद्धा-रहिस्रो
 दाण देइ जमकित्तिरेसम्मि' (स १५७) ।
 रेसि (अप) देखो रेसि (हे ४, ४२५, सण) ।
 रेसिअ वि [दे] छिन्न, काटा हुआ (दे ७,
 ६) ।
 रेसि (अप) नीचे देखो (हे ४, ४२५) ।
 रेसिमि अ निमित्त, लिए, वास्ते, 'दसण-
 नाणचरित्ताण एस रेसिमि सुपसत्थो' (पचा
 १६, ४०) ।
 रेह अक [राज्] दीपना, शोभना, चमकना ।
 रेहइ, रेहए (हे ४, १००, धात्वा १५०,
 महा) । वक्क रेहत (कप्प) ।
 रेहा स्त्री [रेखा] १ चिह्न-विशेष, लकीर
 (ओष ४८६, गउड, सुपा ४१, वजा ६४) ।
 २ पक्ति, श्रेणी (कप्पु) । ३ छन्द-विशेष
 (पिंग) ।
 रेहा स्त्री [राजना] शोभा, वीति (कप्पु) ।
 रेहिअ न [दे] छिन्न पुच्छ, कटी हुई पूँछ
 (दे ७, १०) ।
 रेहिअ वि [राजित] शोभित (सुर १०,
 १८६) ।
 रेहिर वि [रेखावत्] रेखावाला (हे २,
 १५६) ।
 रेहिर } वि [राजित] शोभनेवाला (सुर
 रेहिल्ल } १, ५०, सुपा ५६), 'नयरे नयरे-
 हिल्ले' (उप ७२८ टी) ।
 रेहिल्ल देखो रेहिर = रेखावत् (उप ७२८
 टी) ।
 रोअ देखो रुअ = रुद । रोअइ (सक्षि ३६, प्राक्क
 ३८) । वक्क रोअत, रोयमाण (गा ५४६,
 उप पृ १२८, सुर २, २२६) । हेक्क रोड
 (सक्षि ३७) । क्क रोअत्तअ, रोइअव्व (से
 ३, ६८, गा ३४८, हेका ३३) ।
 रोअ देगो रुच = रुच् । रोयइ, रोयए (भग,
 उप), 'राएइ ज पहूण त चेव कुणति सेवगा
 निच्च' (रमा) । वक्क रोयत (था ६) ।
 रोअ सक [रोच्य्] १ रुचि करना । २
 पण्ड करना, चाहना । रोयइ, रोएमि, रोएहि
 (उन १८, ३३, भग) । सक्क रोयइत्ता
 (उत २६, १) ।

रोअ सक [रोच्य्] निण्यं करना । रोअए
 (दस ५, १, ७७) ।
 रोअ पुं [रोच] रुचि,
 'हुक्कररोया विउसा बाला
 भणियेपि नेव वुज्झति ।
 तो मज्झिमवुद्धीण हियत्थमेसो
 पयासो मे' (वेइय २६०) ।
 रोअ पु [रोग] आमय, बीमारी (पात्र) ।
 रोअग वि [रोचक] १ रुचि-जनक । २ न
 सम्यक्त्व का एक भेद (सवोध ३५, सुपा
 ५५१) ।
 रोअण न [रोदन] रोना, रुदन (दे ५, १०,
 कुप्र २३५, २८६) ।
 रोअण पु [रोचन] १ एक दिग्गहस्ति-कूट
 (इक) । २ न गोरोचन (गउड) ।
 रोअणा स्त्री [रोचना] गोरोचन (से ११,
 ४५, गउड) ।
 रोअणिआ स्त्री [दे] डाकिनी, डाइन (दे ७,
 १२, पात्र) ।
 रोअत्तअ देखो रोअ = रुद ।
 रोआविअ वि [रोदित] रुलाया हुआ (गा
 ३५७, सुपा ३१७) ।
 रोइ वि [रोगिन्] रोगवाला, बीमार (गउड) ।
 रोइ देखो रुइ = रुचि, 'अवि सुदरेवि दिएणे
 हुक्कररोई कलहमाई' (पिड ३२१) ।
 रोइअ वि [रोचित] १ पसद आया हुआ
 (भग) । २ चिकीर्षित (ठा ६—पत्र ३५५) ।
 रोइर वि [रोदित्] रोनेवाला (गा ३८६,
 पड) ।
 रौंरुण वि [दे] रक, गरीव (दे ७, ११) ।
 रौंच सक [पिष्] पीसना । रोचइ, (हे ४,
 १८५) ।
 रोक्कअ वि [दे] प्रोक्षित, अति सिक्त (पड) ।
 रोक्कणि } वि [दे] १ श्रुगी, श्रुगवाला ।
 रोक्कणिअ } २ नृशस, निर्दय (दे ७, १६) ।
 रोग पु [रोग] १ बीमारी, व्याधि (उवा,
 पएह १, ४) । २ एक ब्राह्मण-जातीय श्रावक
 (उप ५३६) ।
 रोगि वि [रोगिन्] बीमार (सुपा ५७६) ।
 रोगिअ वि [रोगिक, त] ऊपर देखो (सुख
 १, १४) ।

रोगिणिआ स्त्री [रोगिणिका] रोग के कारण
 ली जाती वीक्षा (ठा १०—पत्र ४७३) ।
 रोगिल्ल देखो रोगि (प्राप्ता) ।
 रोघस वि [दे] रक, गरीव (दे ७, ११) ।
 रोच्च देखो रौंच । रोच्चइ (षड्) ।
 रोच्च पु [दे] ऋश्य, पशु-विशेष, गुजराती मे
 'रोक्क' (दे ७, १२, विपा १, ४, पात्र) ।
 रोट्ट पुन [दे] १ तदुल पिष्ट, चावल आदि का
 आटा, पिसान, गुजराती मे 'लोटे' (दे ७,
 ११, ओष ३६३, ३७४, पिड ४४, बृह १) ।
 रोट्टा पु [दे] रोटी, रोट (महा) ।
 रोड सक [दे] १ रोकना, अटकाना । २
 अनादर करना । ३ हैरान करना । रोडिसि (स
 ५७५) । कवक्क रोडिज्जत (उप पृ १३३) ।
 रोड न [दे] घर का मान, गृह-भ्रमाण (दे
 ७, ११) ।
 रोडी स्त्री [दे] १ इच्छा, अभिलाषा । २ ब्रणी
 की शिविका (दे ७, १५) ।
 रोत्तव्व देखो रुअ = रुद ।
 रोइ पु [रौद्र] १ अहोरात्र का पहला मुहूर्त
 (सम ५१) । २ एक नृपति, तृतीय बलदेव
 और वासुदेव का पिता (ठा ६—पत्र ४४७) ।
 ३ अलंकार-शास्त्र-प्रसिद्ध नव रसों में एक रस
 (अणु) । ४ वि वारुण, भयकर, भीषण
 (ठा ४, ४, महा) । ५ न ध्यान-विशेष,
 हिंसा आदि क्रूर कर्म का चिन्तन (औप) ।
 रोइ पु [रुद्र] अहोरात्र का पहला मुहूर्त
 (सुज्ज १०, १३) । देखो रुद = रुद ।
 रोद्ध वि [दे] १ कृणित्ताक्ष । २ न मल (दे
 ७, १५) ।
 रोम पुंन [रोमन्] लोम, बाल, रौंआ (औप,
 पात्र, गउड) । कूव पु [कूप] लोम का
 छिद्र (एया १, १—पत्र १३, सुर २,
 १०१) ।
 रोम न [रोम] खान में होता लवण (दस
 ३, ८) ।
 रोमच पु [रोमाञ्च] रोम्रो का खडा होना,
 भय या हर्ष से रोम्रो का उठ जाना, पुलक
 (कुमा, काल, भवि, सण) ।
 रोमचइअ } वि [रोमाञ्चित] पुलकित,
 रोमचिअ } जिमके रोम खडे हुए हो वह
 (पउम ३, १०४, १०२, २०३, पात्र,
 भवि) ।

रच्छामय पुं [दे रथ्यामृग] श्वान, कुत्ता (दे ७, ४) ।

रज देखो रय = रजस् (कुमा) ।

रजरु } पुत्री [रजक] घोबी, कपडा धोने
रजग } का धर्या करनेवाला (श्रा १२, दे
५, ३२) । जी. °की (दे १, ११४) ।

रजय देखो रयय = रजत (इक) ।

रज्ज अक [रज्ज] १ अनुराग करना, आसक्त होना । २ रँगाना, रँग-युक्त होना । रज्जइ (आचा, उव), रज्जह (खाया १, ८—पत्र १४८) । भवि रज्जहिति (श्रौप) । वक्र रज्जत, रज्जमाण (से १०, २०, खाया १, १७, उक्त २६, ३) । क. रज्जियव्य (परह २, ५—पत्र १४६) ।

रज्ज न [राज्य] १ राज, राजा का अधिकृत देश । २ शासन, हुकूमत (खाया १, ८, कुमा, द ४७, भग, प्राह) । °पालिया जी [°पालिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्य) । °घइ पु [°पति] राजा (कप्य) । °सिरी जी [°श्री] राज्य लक्ष्मी (महा) । °हिसेय पुं [°भिषेक] राजमही पर बैठाने का उत्सव (पउम ७७, ३६) ।

रज्जव पुन नीचे देखो, 'खररज्जवेसु वद्धा' (पउम ३६, ११६) ।

रज्जु जी [रज्जु] १ रस्सी (पात्र, उवा) । २ एक प्रकार की नाप, 'चउदसरज्जु लोपो' (पव १४३) ।

रज्जु वि [दे] लेखक, लिखने का काम करनेवाला (कप्य) । °सभा जी [°सभा] १ लेखक गृह । २ शुल्क-गृह, धूँगी-घर, 'हृत्थि-पालस्य रत्तो रज्जुसमार' (कप्य) ।

रज्जिय देखो रहिअ = रहित, 'अरज्जियामितावा तहवी सविति' (सुअ १, ५, १, १७) ।

रट्ट न [राष्ट्र] देश, जनपद (सुपा ३०७, महा) । °उड, °कूड पुं [°कूट] राज-नियुक्त प्रतिनिधि, सूत्रेदार (विपा १, १ टी—पत्र ११, विपा १, १—पत्र ११) ।

रट्टिअ वि [राष्ट्रिय] १ देश-सम्बन्धी । २ पु नाटक की भाषा में राजा का साला (अभि १६४) ।

रट्टिअ पु [राष्ट्रिक] देश की चिन्ता के लिए नियुक्त राज-प्रतिनिधि, सूत्रेदार (परह १, ५—पत्र ६४) ।

रट्ट अक [रट्ट] १ रोना । २ चिल्लाना । रट्टइ (भवि) । वक्र रट्टत (हे ४, ४४५, भवि) ।

रट्टण न [रट्टण] चिल्लाहट, चीख (पिंड २२५) ।

रट्टिय न [रट्टित] १ रुदन, रोना (परह २, ५) । २ आवाज करना, शब्द-करण, 'परहुय-वहुय रट्टिय कुहूकुहूहहुरसदेण' (रभा) । ३ चिल्लाना, चीख (खाया १, १—पत्र ६३) । ४ वि कलहायित, भगडालू, भगडाखोर, 'कलहाइअ रट्टिअ' (पात्र) ।

रट्टरट्टिय न [रट्टरट्टित] शब्द-विशेष, वाद्य-विशेष की आवाज (सुपा ५०) ।

रट्टु वि [दे] खिसक कर गिरा हुआ, गुजरती में 'रट्टेउ' (कुप्र ४५६) ।

रट्टुा जी [रट्टु] छन्द विशेष (पिंग) ।

रण पुन [रण] १ सग्राम, लडाईं (कुमा, पात्र) । २ पु शब्द, आवाज (पात्र) । °खभउर न [°स्तम्भपुर] अजमेर के समीप का एक प्राचीन नगर, 'रणखभउरजियाहरे चडाविया कणायमयकलसा' (मुणि १०६०१) ।

रणङ्कार पु [रणङ्कार] शब्द-विशेष (गजड) ।

रणभण अक [रणभणाय] 'रन् भन्' आवाज करना । रणभणइ (वज्जा १२८) । वक्र रणभणत (भवि) ।

रणभणपिर वि [रणभणायित्] 'रन् भन्' आवाज करनेवाला (सुपा ६४१, धर्मवि ८८) ।

रणरण अक [रणरणाय] 'रन् रन्' आवाज करना । वक्र रणरणत (पिंग) ।

रणरण } पु [दे, रणरणक] १ नि स्वास,
रणरणय } नीसास, 'अइअहहा रणरणया दुप्पेच्छा हसहा डुरालोया' (वज्जा ७८) । २ उद्वेग, पीडा, अघृति, 'गव्यपियसगमासा-भंससमुच्छलियरणरणान्न' (सुर ४, २३०, पात्र) । ३ उल्लेख, श्रौत्सुक्य (दे १, १३६, गजड, रविम ४८, सबे २) ।

रणरणाय देखो रणरण = रणरणाय । वक्र, रणरणायत (पउम ६४, ३६) ।

रणिअ न [रणित] शब्द, आवाज (सुर १, २४८) ।

रणिर वि [रणित्] आवाज करनेवाला (सुपा ३२७, गजड) ।

रणण न [अरण्य] जंगल, अटवी (हे १, ६६, प्राप्र, श्रौप) ।

रत्त पु [रक्त] १ लाल वर्ण, लाल रंग । २ कुसुम । ३ वृक्ष विशेष, हिज्जल का पेड़ (हे २, १०) । ४ न, कुकुम । ५ तात्र, तांवा । ६ सिद्धर । ७ ट्टियुल । ८ खून, रविर । ९ राग (प्राप्र) । १० वि रंगा हुआ (हेका २७२) । ११ लाल रंगवाला (पात्र) । १२ अनुराग-युक्त (शोध ७५७, प्रासू १५५, १६०) । °कवला जी [°कम्बला] मेरुपर्वत के पएडक वन में स्थित एक शिला, जिसपर जिनदेवो का अभिषेक किया जाता है (ठा २, ३—पत्र ८०) । °कूड न [°कूट] शिखर-विशेष (राज) । °कोरिंटिय पुं [°कुरण्टक] वृक्ष-विशेष (पउम ५३, ७६) । °क्ख, °च्छ वि [°क्ष] १ लाल आँखवाला (राज, सुर २, ६) । जी °च्छी (शोधभा २२ टी) । २ पु महिष, भैंसा (दे ७, १३) । °ट्ट पु [°र्थ] विद्याधर वर का एक राजा (पउम ५, ४४) । °धाउ पु [°धातु] कुएडल पर्वत का एक शिखर (दीव) । °पड पु [°पट] परिव्राजक, सन्यासी (खाया १, १५—पत्र १६३) । °पवाय पुं [°प्रपात] ब्रह्म-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७३) । °पपह पु [°प्रभ] कुएडल-पर्वत का एक शिखर (दीव) । °रयण न [°रत्त] रत्त की एक जाति, पद्म-राग मणि (श्रौप) । °वई जी [°वती] एक नदी (सम २७, ४३, इक) । °वड देखो °पड (सुख ८, १३) । °सुभहा जी [°सुभद्रा] श्रीकृष्ण की एक भगिनी (परह १, ४—पत्र ८५) । °सोय पु [°शोक] लाल शोक का पेड़ (खाया १, १, महा) ।

रत्त पु [रात्र] रात, निशा (जी ३४) ।

रत्तग देखो रत्त = रक्त (महा) ।

रत्तदण न [रक्तचन्दन] लाल चन्दन (सुपा १२१) ।

रोहिणी स्त्री [रोहिणी] १ नक्षत्र-विशेष (सम १०)। २ चन्द्र की पत्नी (धा १६)। ३ श्रौपवि-विशेष (उत्त ३४, १०, सुर १०, २२३)। ४ भविष्य में भारतवर्ष में तीर्थंकर होनेवाली एक श्राविका (सम १५४)। ५

नववें ब्रह्मदेव का माता का नाम (सम १५२)। ६ एक विद्या देवी (सति ५)। ७ शक्रेन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—यत्र ४२६)। ८ सत्युष्य नामक किंपुष्पेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४)।

९ शक्रेन्द्र के एक लोकपाल की पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। १० तप-विशेष (पत्र २७१, पचा १६, २३)। ११ गो, नैया (पाम्र)। १२ रमण पु [रमण] चन्द्रमा (पाम्र)। रोहीडगा न [रोहीतक] नगर-विशेष (संथा ६८)।

॥ इम सिरिपाइअसहमहण्णवमि रराराइसहसकलणो
तेत्तीसइमो तरगो समत्तो ॥

ल पु [ल] मूर्ध-स्थानीय अन्तस्य व्यञ्जन वर्ण विशेष (पाम्र)।

लइ प्र ले, अच्छा, ठीक (भवि)।

लइ देखो लय = ला।

लइअ वि [दे लगित] १ परिहित, पहना हुआ। २ अग में पिनद्ध (दे ७, १८, पिड ५६१, भवि)।

लइअल पु [दे] वृषभ, बैल (दे ७, १६)।

लइआ स्त्री [लतिका, लता] देखो लया (नाट—रत्ना ७, गउड, उप ७६८ टी)।

लइणा } स्त्री [दे] लता, वल्ली (पड, दे लइणी) ७, १८)।

लउअ पु [लकुच] वृक्ष-विशेष, बडहल का गाछ (श्रौप, पि ३६८)।

लउड } पु [लकुट] लकड़ी, लाठी, डडा, लउर, लउल } यष्टि (दे ७, १६, सुर २, ८, श्रौप)।

लउस } पु [लकुश] १ अनायं देश-विशेष लउसग } (पत्र २७४, इक)। २ पुष्पो लकुश देश का निगामी मनुष्य। स्त्री [लिया] (पाम्र १, १—यत्र ३७, श्रौप, इक)।

ला स्त्री [लद्धा] नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप की राजधानी (न ३, ६२, पत्र ४६, १६, मपु)। लम नि [लय] लग्न-निवासी (वज्रा १-०)। सुदरी नो [सुन्दरी] हनुमान की एक पत्नी (पत्र ५२, २१)। सोग

पु [शोक] राक्षस वंश का एक राजा (पत्र ५, २६५)। हिष पुं [धिप] लका का राजा (उप पु ३७५)। हिचइ पु [धिपति] वही अर्थ (पत्र ४६, १७)।

लम स्त्री [दे] शाखा (वज्रा १३०)।

लंख } पुष्पो [लख] बडे बाँस के ऊपर खेल लखग } करनेवाली एक नट-जाति (पाम्र १, १—पत्र २, परह २, ५—यत्र १३२, श्रौप, कप्य)। स्त्री [खिगा] (उप १०१४)।

लगल न [लाङ्गल] हल, 'खित्तिसु वहति लगलाण सया' (धर्मवि २४, हे १, २५६, पड ८०)।

लगलि पु [लाङ्गलिन] बलभद्र, बलदेव (कुमा)।

लगलि } स्त्री [लाङ्गली] वल्ली-विशेष, ल्याली } शारदी लता (कुमा)।

लगिम पुष्पो [दे] १ जवानी, यौवन। २ ताजापन, नवीनता, 'पिसुणइ तणुलदो लगिम चगिम व' (कप्य)।

लगूल न [लाङ्गूल] पुच्छ, पूँछ (हे १, २५६, पाम्र, कप्य, कुमा)।

लंगूलि वि [लाङ्गूलिन] पुच्छवाला, पशु (कुमा)।

लंगोल देखो लगूल (सुज १०, ८)।

लथ सक [लड्, लड्य] १ लांघना, अतिक्रमण करना। २ भोजन नहीं करना। लथइ, लथेइ (महा, भवि)। कर्म लधिज्जइ (कुमा)। वक्क लंघत, लघयत (सुपा २७१, पत्र ६७, २१)। सक्क लधित्ता, लधिऊण (महा)। हेक्क लघेउ (पि ५७३)। क लघणिज्ज (से २, ४४), लघ (कुमा १, १७)।

लघण न [लङ्गण] १ अतिक्रमण (सुर ५, १६२)। २ भ्र-भोजन (उप १३५ टी)।

लाधि वि [लङ्गित] लांघन करनेवाला (कप्य)। लाधिअ वि [लङ्गित] जिसका लघन किया गया हो वह (गउड)।

लच पुं [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ७, १७)।

लचा स्त्री [लच्छा] धूस, रिश्वत, उक्कोच (पाम्र, परह १, ३—पत्र ५३, दे १, ६२, ७, १७, सुपा ३०८)।

लच्छि वि [लच्छिक] धूसखोर, रिश्वत ले कर काम करनेवाला (वव १)।

लच्छ सक [लच्छ] १ भांगना, तोड़ना। २ कलाकित करना। कर्म लच्छिज्जइ (दसनि ८, १४)।

लच्छ पु [लच्छ] चोरो की एक जाति (विपा १, १—पत्र ११)।

रयण वि [रचन] करनेवाला, निर्माता, 'चेडीसंचितारयणु' (सण)।

रयण पु [रदन] दाँत, दशन (उप ६८६ टी, पात्र, काप्र १७२, नाट शकु १३)।

रयण पुन [रत्न] १ माणिस्य प्रादि बहुमूल्य पत्थर, मणि, 'डुवे रयणा समुष्पन्ना' (निर १, १, उप ५६३, णाया १, १, सुपा १४७, जो ३, कुमा. हे २, १०१)। २ श्रेष्ठ, स्वजाति मे उत्तम (सम २६, कुमा ३, ४७), 'सहवि हु चद-सरिच्छा विरला रय-णायरे रयणा' (वज्जा १५६)। ३ छन्द-विशेष (पिंग)। ४ द्वीप-विशेष (णाया १, ६, पउम ५५, १७)। ५ पर्वत-विशेष का एक कूट (ठा ४, २, ८)। ६ पु व रत्न-द्वीप का निवासी (पउम ५५, १७)। ७ उर न [पुर] नगर-विशेष (सण)। ८ चित्त पु [चित्र] विद्याधर वश का एक राजा (पउम ५, १५)। ९ दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष (णाया १, ६—पत्र १६५)। १० निहि पु [निधि] समुद्र, सागर (सुपा ७, १२६)। ११ पुढवी स्त्री [पृथिवी] पहली नरक-भूमि, रत्नप्रभा नामक नरक-भूमि (स १३२)। १२ पुर देखो उर (कुप्र ६, महा, सण)। १३ प्यभा, प्यदा स्त्री [प्रभा] १ पहली नरक-भूमि (ठा ७—पत्र ३८८, श्रौप, भग)। २ भोम नामक राक्षसेन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। ३ रत्न का तेज (स १३३)। ४ मय वि [मय] रत्नों का बना हुआ (महा)। ५ माला स्त्री [माला] छन्द-विशेष (अजि २४)। ६ मालि पु [मालिन्] विद्याधर वश में उत्पन्न मि-राज का एक पुत्र (पउम ५, १४)। ७ मुस वि [मुष] रत्नों को चुरानेवाला (वड)। ८ रह पु [रथ] विद्याधर वश का एक राजा (पउम ५, १४)। ९ रासि पु [राशि] समुद्र (प्राह)। १० वड पु [पति] रत्नों का मालिक, धनी, श्रीमत (सुपा २६६)। ११ वई स्त्री [वती] एक रानी (रयण ३)। १२ वज्ज पु [वज्ज] विद्याधर-वंशीय एक राजा (पउम ५, १४)। १३ वह वि [वह] रत्न-धारक (गड १०७१)। १४ सचय न [सचय] १ रुचक पर्वत का कूट (इक)। २ एक नगर

(इक, सुर ३, २०)। १ सचया स्त्री [सचया] १ मगलावती नामक विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०)। २ ईशानेन्द्र की वसुधरा नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक)। ३ समया स्त्री [समया] मगलावती नामक विजय की एक राजधानी (इक)। ४ सार पु [सार] १ एक राजा (राज)। २ एक शेट का नाम (उप ७२८ टी)। ३ सिंह पु [सिंह] एक जैन आचार्य, सवेगवृत्तिकाकुलक कर्ता (सवे १२)। ४ सिंह पु [सिंह] एक राजा (उप १०३१ टी)। ५ सेहर पु [शेहर] १ एक राजा (रयण ३)। २ विक्रम की पनरहवीं शताब्दी मे विद्यमान एक जैन आचार्य और ग्रथकार (सिरि १३४०)। ३ अर, गर पु [कर] १ रत्न की खान (वड)। २ समुद्र (पात्र, सुपा ३७, प्रासू ६७, णाया १, १७—पत्र २२८)। ३ भा स्त्री [भा] देखो प्यभा (उत्त ३६, १५७)। ४ मय देखो मय (महा, श्रौप)। ५ अरसुअ पु [करसुत] १ चन्द्रमा। २ एक वणिक-पुत्र (आ १६)। ३ वलि, वली स्त्री [वलि, वली] १ रत्नों का हार (सम्म २२)। २ तप-विशेष (अत २५)। ३ ग्रन्थ-विशेष (दे ८, ७७)। ४ एक विद्याधर-राजकन्या (पउम ६, ५२)। ५ वह न [वह] नगर-विशेष (महा)। ६ सव पु [सव] रावण का पिता (पउम ७, ५६, ७१)। ७ सवसुअ पु [सवसुत] रावण (पउम ८, २२१)। ८ हिय वि [धिक] ज्येष्ठ, अवस्था मे बड़ा (राज)।

रयणप्यभिय वि [रात्नप्रभिक] रत्नप्रभा-संबन्धी (पत्र २, ६६)।

रयणा स्त्री [रचना] निर्माण, कृति (उत्त १५, १८, चैड्य ८६६, सुपा ३०४, रभा)।

रयणा स्त्री [रत्ना] रत्नप्रभा नामक नरक-भूमि (पव १७५)।

रयणि पु स्त्री [रति] एक हाथ की नाप, बद्ध-शुद्धि हाथ का परिमाण (कस, पव ५८, १७६)।

रयणि स्त्री [रजनि] देखो रयणी = रजनी (णाया १, २—पत्र ७६, कप्प)। २ अर पु [चर] १ राक्षस (सि १०, ६६, पात्र)।

अर, कर पुं [कर] चन्द्रमा (हे १, ८ टि, कप्प)। २ गाह, नाह पुं [नाथ] चन्द्रमा (पात्र, सुपा ३३)। ३ भक्त न [भक्त] रात्रि मे खाना (सुपा ४६५)। ४ रमण पु [रमण] चन्द्रमा (सण)। ५ वल्लह पु [वल्लभ] चन्द्रमा (कप्प)। ६ विराम पु [विराम] प्रात काल, सुबह (पात्र)।

रयणिद पु [रजनीन्द्र] चन्द्रमा (सण)।

रयणिद्वय न [दे] कुमुद, कमल (दे ७, ४, पड)।

रयणी स्त्री [रनी] देखो रयणि = रति (ठा १, सम १२, जीवस १७७, जी ३३, श्रौप)।

रयणी स्त्री [रजनी] १ रात्रि, रात (पात्र, प्रासू १३६, कुमा)। २ ईशानेन्द्र के लोकपाल की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)।

३ चमरेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ५, १—पत्र ३०२)। ४ मध्यम ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३)। ५ षड्वज ग्राम की एक मूर्च्छना, 'मगी कोरवनीया हरो य रय-तणी(? यणी) सारकता य' (ठा ७—पत्र ३६३)। ६ भोजन न [भोजन] रात में खाना (आ २०)। ७ सार न [सार] सुरत, मैथुन (सि ३, ४८)। देखो रयणि = रजनि (हे १, ८)।

रयणी स्त्री [रजनी] श्रौवधि-विशेष—१ पिंडदाह। २ हरिद्रा, हलदी (उत्तनि ३)।

रयणुच्यय पु [रत्नोच्यय] १ मेल-पर्वत रयणोच्यय (सुज ५ टी—पत्र ७७, इक)।

२ कूट-विशेष (इक)।

रयणोच्यया स्त्री [रत्नोच्यया] वसुधरा नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक)।

रयत न [रजत] १ स्वयं, चाँदी (णार रयद १, १—पत्र ६६, प्राह १२, प्रा रयय पात्र, उवा, श्रौप)। २ एक दे-विमान (देवेन्द्र १३१)। ३ हाथी का दाँत ४ हार, माला। ५ सुवर्ण, सोना। ६ शक्ति ध्वज। ७ शैल, पर्वत। ८ धवल वर्षा। ९ शिखर-विशेष। १० वि सफेद वर्णवा श्वेत (प्राह १२, प्राप्र, हे १, १७७, १८ २०६)। ११ गिरि पु [गिरि] पर्वत-वि- (णाया १, १, श्रौप)। १२ वक्त न [वा

पानेवाली श्रीकृष्ण की एक पत्नी (अत १५)। ३ एक अमात्य की स्त्री (उप ७२८ टी)।

लक्ष्मणिय वि [लाक्ष्मणिक, लाक्ष्मण्य] १ लक्ष्मणो का जानकार। २ लक्ष्मण-युक्त (सुपा १३६)।

लक्ष्मणयण } पु [लक्ष्मण] विक्रम की वार-
लक्ष्मणयण } हवीं शताब्दी का एक जैन मुनि
श्रोर प्रयाकार (सुपा ६५८)।

लक्ष्मा स्त्री [लाक्षा] लाख, लाह, जतु, चपडा (गाथा १, १—पत्र २४, परह २, ५)।
रुणिय वि [रुणित] लाख से रंगा हुआ (पाम्र)।

लक्षित्व अ वि [लक्षित] १ जाना हुआ। २ पहचाना हुआ। ३ देखा हुआ (गउड, नाट—रत्ना १४)।

लग न [दे] निकट, पास (पिंग)।

लगड न [लगण्ड] वक्र काष्ठ (पचा १८, १६, स ५६६)। °साइ वि [शायिन्] वक्र काष्ठ की तरह सोनेवाला (परह २, १—पत्र १००, श्रौप, कस, पचा १८, १६, ठा ५, १—पत्र २६६)। °सण न [सिन] आसन विशेष (सुपा ८५)।

लगुड देखो लउड (कुप्र ३८६)।

लगग सक [लग] लगना, सग करना, सवष करना। लगह (हे ४, २३०, ४२०, ४२२, प्राक ६८, प्राप्र, उव)। भवि, लमिगस्स, लमिगहिइ (पि ५२७)। लगगत, लगगमाण (चिइय ११२, उप ६६६, गा १०५)। सक लगगण (कुप्र ६६), लगगवि (भग) (हे ८, ३३६)। कृ लगगअवज (सुर १०, ११२)।

लगग न [दे] १ चिड। २ वि अघटमान, असम्बद्ध (हे ७, १७)।

लगग न [लगन] १ मेघ प्रादि राशि का उदय (सुर २, १७०, मोह १०१)। २ वि सन्तः सबद्ध (पाम्र, कुमा, सुर २, ५६)। ३ पु स्तुति-पाठक (हे २, ६८)।

लगग न [लगान] सग, सबन्ध, 'वडपाय-यसाहातगणेण' (सुर १५, १८, उप १३४, ५३८)।

लगगणय पु [लगनक] प्रतिभु, जमानत करनेवाला, जामीन (पाम्र)।

लगगण देखो लगग = लग्।

लघिम पुत्री [लघिमन्] १ लघुता, लाघव। २ योग की एक सिद्धि, जिसके प्रभाव से मनुष्य छोटा बन सकता है, 'लघिज्ज लघिमणुणमो अनिलस्सवि लाघव साहू' (कुप्र २७७)। ३ विद्या-विशेष (पउम ७, १३६)।

लचय न [दे] तृण-विशेष, गण्डुव तृण (दे ७, १७)।

लच्छ देखो लम्ब = लक्ष्य (नाट)।

लच्छ देखो लभ।

लच्छण देखो लम्बण = लक्षण (सुपा ६४, प्राक २२, नाट—चैत ५५)।

लच्छि° स्त्री [लक्ष्मी] १ सपत्ति, वैभव। २ लच्छि स्त्री } धन, द्रव्य। ३ कान्ति। ४ श्रौषध-विशेष। ५ फलिनी वृक्ष। ६ स्थल-पश्चिमी।

७ हरिद्रा। ८ युक्ता, मोती। ९ शटी नामक श्रौषधि (कुमा, प्राक ३०, हे २, १७)।

१० शोभा (से २, ११)। ११ विष्णु-पत्नी (पाम्र, से २, ११)। १२ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०)। १३ षष्ठ वासुदेव की माता (पउम २०, १८४)। १४ पुत्रोक्त द्रह की अघिष्ठात्री देवी (ठा २, ३—पत्र ७२)। १५ देव-प्रतिमा विशेष (गाथा १, १ टी—पत्र ४३)। १६ छन्द-विशेष (पिंग)। १७ एक वरिष्ण-पत्नी (७२८ टी)। १८ शिखरी पर्वत का एक कूट (इक)। °निलय पु [निलय] वासुदेव (पउम ३७, ३७)। °मई स्त्री [मती] १ छटवें वासुदेव की माता (सम १५२)। २ ग्यारहवें चक्रवर्ती का स्त्री-रत्न (सम १५२)। °मदिर न [मदिर] नगर-विशेष (सुपा ६३२)। °वइ पु [पति] लक्ष्मी का स्वामी, श्रीकृष्ण (प्राक ३०)। °वई स्त्री [वती] दक्षिण रुचक पर रहनेवाली एक दिग्भुवारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६, इक)। °हूर पु [वर] १ वासुदेव (पउम ३८, ३४)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ न. नगर-विशेष (इक)।

लज्जु (भयो) देखो रज्जु = (दे) (कम्प—रज्जु)।

लज्ज अक [लज्ज] शरमाना। लज्जइ (उव, महा)। कर्म लज्जज्जइ (हे ४, ४१६)।

वक्र लज्जत, लज्जमाण (उप पृ ५५, महा, आचा)। कृ. लज्जगिज्ज (से ११, २६, गाथा १, ८—पत्र १४३)।

लज्जण } न [लज्जन] १ शरम, लाज
लज्जणय } (सा ८, राज)। २ वि. लज्जा-कारक, 'कि एतो लज्जणय ज पह-रिज्जइ दीणे पलायमाणे पमत्ते वा' (सुपा २१५, भवि)।

लज्जा स्त्री [लज्जा] १ लाज, शरम (श्रौप, कुमा, प्रासू ६६ गा ६१०)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ सयम (भग २, ५, श्रौप)।

लज्जापइत्तअ (शौ) वि [लज्जायित्] लजाने-वाला, 'जुवइवेसलज्जापइत्तअ' (मा ४२)।

लज्जालु वि [लज्जालु] लज्जावान्, शरमिदा (उप १७६ टी)।

लज्जालु स्त्री [लज्जालु] १ लता-विशेष, लज्जालुआ } लाजवती, लजवती, छुईछुई लज्जालुइणी } (षड्, हे २, १५६, १७४)। २ लज्जावाली स्त्री (षड्, हे २, १५६, १७४, सुर २, १५६, गा १२७, प्राक ३५)।

लज्जालुइणी स्त्री [दे] कनह-कारिणी स्त्री (षड्)।

लज्जालुहूर } वि [लज्जालु] लज्जाशील,
लज्जालुहूर } शरमिदा। स्त्री °री (गा ४८२, ६१२ अ)।

लज्जाव सक [लज्जय] शरमिदा बनाना, लजवाना। लज्जावेदि (शौ) नाट—मृच्छ ११०)। कृ लज्जावणिज्ज (स ३६८, भवि)।

लज्जावण वि [लज्जान] शरमिन्दा करनेवाला (परह १, ३—पत्र ५४)।

लज्जाविय वि [लज्जित] लजवाया हुआ (परह १, ३—पत्र ५४)।

लज्जिअ वि [लज्जित] १ लज्जा-युक्त (पाम्र)। २ न लज्जा, शरम, 'न लज्जिअ अण्योवि पतिआण' (आ १४)।

लज्जिर वि [लज्जित्] लज्जा-शील (हे २, १४५, गा १५०, कुमा, वज्जा ८, भवि)। स्त्री °री (पि ५६६)।

लज्जु स्त्री [रज्जु] १ रस्सी, लज्जुरी, लेज्जुरी या लेजुर। २ वि. 'रस्सी की तरह सरल, सीधा, 'चाई लज्जु धन्ने तवस्सी' (परह २, ५—पत्र १४६, भग)।

रसिअ वि [रसित] १ रस-युक्त, रसवाला (पव २) । २ न शब्द, आवाज (गउड, पएह १, १) ।

रसिआ की [दे रसिका] १ पूय, पीत्र, ब्रण से निकलता गंदा सफेद खून, गुजराती मे 'रसी' (आ १२, विपा १, ७, पएह १, १) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।

रसिद पुं [रसेन्द्र] पारद, पारा (जी ३, भु १५८) ।

रसिग देखो रसिअ = रसिक (पचा २, ३४) ।

रसिर वि [रसिवृ] आवाज करनेवाला (सण) ।

रसोइ (अप) देखो रस-वई (भवि) ।

रस्सि पुकी [रदिम] १ किरण, 'भरह समा-सियाओ आइच्च चैन रस्सीओ' (पउम ८०, ६४, पात्र, प्राप्र) । २ रस्सी, रज्जु (प्रासु ११७) ।

रह अक [दे] रहता । रहइ, रहए, रहेइ (पिंग, महा, सिरि ८६३), रहसु, रहह (सिरि ३५५, ३५३) ।

रह सक [रह] ध्यागना, छोडना (कपू, पिंग) ।

रह पु [रभस] उक्ताह, 'पुणो पुणो से स-रह कुहेति' (सूम १, ५, १, १८) । देखो रहस = रभस ।

रह पुन [रहस] १ एकान्त, निर्जन, 'तय रहो ति आगच्छ' (कुप्र ८२), 'लहु मे रह देसु' (सुपा १७४, वजा १५२) । २ प्रच्छन्न, गोप्य (ठा ३, ४) ।

रह पुन [रथ] १ यान-विशेष, स्पन्दन, 'बम्मस निन्वाणपहे रह्याणि' (सत्त १८, पात्र, कुमा) । २ पु एक जैन महर्षि (कपू) । °कार पु [कार] रथ निर्माता, वर्षकि, बढई (सुपा ४४४, कुप्र १०४, उव) । °चरिया की [चर्या] रथ को हाँकना, 'ईसत्यसत्यरहचरियाकुसलो' (महा) । °जत्ता की [यात्रा] उत्सव-विशेष (सुपा ५४१, सुर १६, १६, सिरि ११७५) । °णउर न [नूपुर] नगर-विशेष (पउम २८, ७, इक) । °णउरचक्रवाल न [नूपुर-चक्रवाल] वैताल्य पर्वत पर स्थित एक नगर (पउम-५, ६४, इक) । °नेमि पु

[°नेमि] भगवान् नेमिनाथ का भाई (उत्त २२, ३६) । °नेमिज्ज न [°नेमीय] उत्तरा-ध्ययन सूत्र का वाइसवा अध्ययन (उत्त २२) । °मुसल पु [मुसल] भारतवर्ष की एक प्राचीन लडाई, राजा कोणिक और राजा चेटक का सन्धाम (भग ७, ६) । °यार देखो °कार (पात्र) । °रेणु पु [°रेणु] एक नाप, आठ त्रसरेणु का एक परिमाण (इक) । °वीरउर, °वीरपुर न [°वीरपुर] एक नगर (राज: विसे २५५०) ।

रहइ अ [रभसा] वेग से (स ७६२) ।

रहग पुकी [रथाङ्ग] १ चक्रवाक पक्षी, चकवा (पात्र, सुर ३, २४७, कुमा) । की. °गी (सुपा ४६८, सुर १०, १८५, कुमा) । २ न. चक्र, पहिया (पात्र) ।

रहट्ट देखो अरहट्ट (गा ४६०, पि १४२) ।

रहण न [दे] रहना, स्थिति, निवास (धर्मवि २१, रयण ६) ।

रहण न [रहन] १ ध्याग । २ विरति, विराम, 'रसरहण' (पिंग) ।

रहमाण पु [दे] १ यवन मत का एक तत्त्व-वेत्ता (मोह १००) । २ खुदा, अल्ला, परमेस्वर (ती १५) ।

रहस पु [रभस] १ श्रीलुक्य, उत्कराठा (कुमा) । २ वेग । ३ हर्ष । ४ पूर्वापर का अविचार (सक्ति ७, गउड) ।

रहस देखो रहस्स = रहस्य, 'रहसामकखारो' (उवा: सवोष ४२, सुपा ४५४) ।

रहसा अ [रभसा] वेग से (गउड) ।

रहस्स वि [रहस्य] १ शुद्ध, गोपनीय (पात्र, सुपा ३१८) । २ एकान्त मे उत्पन्न, एकान्त का (हे २, २०४) । ३ न तत्त्व, तात्पर्य, भावार्थ (शोष ७६०, रभा १६) । ४ अपवाद-स्थान (इह ६) ।

रहस्स वि [ह्रस्व] १ लघु, छोटा (विपा १, ८—पत्र ८३) । २ एक मात्रावाला स्वर (उत्त २६, ७२) ।

रहस्स न [ह्रस्व] १ लाघव, छोटाई । °मत वि [°वत्] लघु, छोटा (सूम २, १, १३) ।

रहस्सिय वि [राहसिक] प्रच्छन्न, उप्त (विपा १, १—पत्र ५) ।

रहाविअ वि [दे] स्थापित, रखवाया हुआ (हम्मीर १३) ।

रहि वि [रथिन्] १ रथ से लबनेवाला योद्धा (उप ७२८ टी) । २ रथ को हाकनेवाला (कुप्र २८७, ४६०, धर्मवि १११) ।

रहिय वि [रथिक] उपर देखो, 'रहिपहि महारहियो' (उप ७२८ टी, पएह २, ४—पत्र १३०, धर्मवि २०) ।

रहिय वि [रहित] परित्यक्त, वञ्चित, शून्य (उवा, दं ३२) ।

रहिय वि [रहित] एकाकी, अकेला (वव १) ।

रहिअ वि [दे] रहा हुआ, स्थित (धर्मवि २२) ।

रहु पु [रथु] १ सूर्य वश का एक स्वनाम-ख्यात राजा (उत्तर ५०) । २ पु ब रहु-वंश मे उत्पन्न क्षत्रिय (से ४, १६) । ३ पु श्रीरामचन्द्र, 'ताहे कयतसरिखी देह रहु रिबुवले दिहो' (पउम ११३, २१) । ४ कालिदास-प्रणीत एक संस्कृत काव्य-ग्रन्थ (गउड) । °आर पु [कार] रघुवश नामक संस्कृत काव्य-ग्रन्थ का कर्ता, कवि कालिदास (गउड) । °णाह पु [नाथ] १ श्रीरामचन्द्र (से १४, १६, पउम ११३, ५५) । २ लक्ष्मण (से १४, ६२) । °तणय पु [तनय] वही अर्थ (से २, १, १४, २६) । °तिलय पु [तिलक] श्रीरामचन्द्र (सुपा २०४) । °त्तम पु [उत्तम] वही अर्थ (पउम १०२, १७६) । °पुगव पुं [पुङ्गव] वही (से ३, ५, हे २, १८८, ३, ७०) । °सुअ पुं [सुत] वही (से ५, १६) ।

रहो° देखो रह = रहस (कपू, औप) । °कम्म न [°कम्मन्] एकान्त-न्यापार (ठ ६—पत्र ४६०) ।

रा सक [रा] देना, दान करना । राइ (धात्वा १४६) ।

रा अक [रै] शब्द करना, आवाज करना । राइ (प्राह ६६) ।

रा अक [ली] श्लेष करना, चिपकना । राइ (पट्ट) ।

राअला की [दे] प्रियण, मालकांगनी (दे ७, १) ।

लया ली [लता] १ वल्लो, वल्लरी (परएण १, गा २८, काप्र ७२३, कुमा, कम्प) । २ प्रकार, भेद, 'सघाडो त्ति वा लय त्ति वा पगारो त्ति वा एगद्धा' (वृह १) । ३ तप-विशेष (पव २७१) । ४ सख्या-विशेष, चौरासी लाख लताग परिमित सख्या (जो २) । ५ कम्वा, छडो, यट्टि, 'कसप्पहारे य लयप्पहारे य छिन्नापहारे य' (णाय १, २—पत्र ८६, विपा १, ६—पत्र ६६) । ६ जुद्ध न [युद्ध] लडने को एक कला, एक तरह का युद्ध (श्रीप) ।

लयापुरिस पु [दे] बह स्थान, जहाँ पक्क-हस्त ली का चित्रण किया जाय, 'पउमकरा जत्थ वहु लिहिजए सो लयापुरिसो' (दे ७, २०) ।

लल अक [ल, लड्] १ विलास करना, मौज करना । २ झूलना । ललइ, ललेइ (प्राक् ७३, सण, महा, सुपा ४०३) । वक्क, ललत, ललमाण (गा ४४६, सुर २, २३७, भवि, श्रोप, सुपा १८१, १८७) ।

ललणा ली [ललना] ली, महिला, नारी (तडु ५०, सुपा ४.७) ।

ललाड देवो गडाळ (श्रीप, पि २६०) ।

ललाम न [ललामन्] प्रधान, नायक (अभि ६५) ।

ललिन न [ललिन] १ विलास, मौज, लीला (पाप्र, पव १६६, श्रीप) । २ अग-विन्यास-विशेष (परह १, ४) । ३ प्रसन्नता, प्रसाद (विपा १, २ टी—पत्र २२) । ४ वि क्रीडा-प्रधान, मोजो (णाय १, १६—पत्र २०५) । ५ शोभा-युक्त, सुन्दर, मनोहर (णाय १, १, श्रोप, राय) । ६ मज्जु, मधुर (पाप्र) । ७ इमित्त, अभिलपित (णाय १, ६) । ८ मत्त पुं [मित्त] सातवें वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३, पउम २०, १७८) । ९ विरथरा ली [विस्तरा] आचार्य श्रीरिभद्रमूरि का बनाया हुआ एक जैन ग्रन्थ (चिइय २५६) ।

ललिग पु [ललिगा] एक राज-कुमार (उव ६८६ टी) ।

ललित न [ललित] छन्द विशेष (अभि ६८) ।

ललिआ ली [ललिना] एक पुरोहित-ली (उप ७२८ टी) ।

लल वि [दे] १ सस्पृह, स्पृहावाला । २ न्यून, अपूर (दे ७, २६) ।

लल वि [लल] अव्यक्त आवाजवाला (परह १, २) ।

ललक पु [ललक] छठवीं नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र १२) ।

ललक वि [दे] १ भीम, भयकर (दे ७, १८, पाप्र, सुर १६, १४८), 'ललकनरयविअणाओ' (भत्त ११०) । २ पु. ललकोर, लडाईं आदि के लिए आह्वान (उप ७६८ टी) ।

ललि ली [दे] खुशामद (धर्मवि ३८, जय १६) ।

ललिरी ली [दे] मछली पकडने का जाल-विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५) ।

लव सक [लू] काटना । सक लविऊण । हेक्क लविड । क लविअव्व (प्राक् ६६) ।

लव सक [लपू] बोलना, कहना । लवइ (कुमा, सवोष १८, सण), लवे (भास ६६) । वक्क लवत, लवमाण (सुपा २६७, सुर ३, ६१) ।

लव सक [प्र + वर्तय्] प्रवृत्ति कराना, 'णो विज्जू लवति' (सुज्ज २०) ।

लव वि [लप] वाचाट, वकवादी (सुअ २, ६, १५) ।

लव पु [लव] १ समय का एक सूक्ष्म परिमाण, सात स्तोक, मुहूर्त का सतरहवाँ अंश (डा २, ४—पत्र ८६, सम ८५) । २ लेश, अल्प, थोडा (पाप्र, प्रासू ६६, ११८, सण) । ३ न कर्म (सुअ १, २, २, २०, २, ६, ६) । ४ सत्तम पु [सत्तम] अनुत्तरविमान निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (परह २, ४, उव, सुअ १, ६, २४) ।

लव पु [दे लवक] गोद, लासा, चेा, नियास, 'लवओ उवो' (पाप्र) ।

लवइ अवि [दे लवकित] नूतन दल से युक्त, अकुरित, पल्लवित (श्रीप, भग, णाय १, १ टी—पत्र ५) ।

लवग पुन [लवङ्ग] १ वृक्ष-विशेष, लौंग का पेड़ (परएण १—पत्र ३४, कुप्र २४६) । २ वृक्ष-

विशेष का फूल, लौंग (णाय १, १—पत्र १२, परह २, ५) ।

लवण न [लवन] छेदन, काटना (वित्ते ३२०६) ।

लवण न [लवण] १ लोन, नून, नोन, नमक (कुमा) । २ पु. रस विशेष, क्षार रस (अणु) । ३ समुद्र विशेष (सम ६७, णाय १, ६, पउम ६६, १८) । ४ सीता का एक पुत्र, लव (पउम ६७, १६) । ५ मधुराज का एक पुत्र (पउम ८६, ४७) । ६ जल पु [जल] लवण समुद्र (पउम ५७, २७) । ७ ीय पुं [ीव] लवण समुद्र (पउम ६४, १३) । देखो लोण ।

लवणिम पुत्री [लवणिमन्] लावण्य (कुमा) ।

लवल न [लवल] पुष्प-विशेष (कुमा) ।

लवली ली [लवली] लता-विशेष (सुपा ३८, कुप्र २४६) ।

लवव वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (षड्) ।

लविअ वि [लपित] उक्त, कथित (सुअ १, ६, ३५, कुमा, सुपा २६७) ।

लवित्त न [लवित्र] दात्र, वींती हैंसुआ या हैंसिया, घास काटने का एक औजार (दे १, ८२) ।

लविर वि [लपित्] बोलनेवाला (सण) । ली 'रा (कुमा) ।

लस अक [लस्] १ श्लेष करना । २ चमकना । ३ क्रीडा करना । लसइ (प्राक् ७२) । वक्क लसत (सण) ।

लसइ पु [दे] काम, कन्दर्प (दे ७, १८) ।

लसक न [दे] तप-वीर, पेड़ का दूध (दे ७, १८) ।

लसण देवो लसुण (सुअ १, ७, १३) ।

लसिर वि [लसित्] १ श्लिष्ट होनेवाला । २ चमकनेवाला, वीप्र (से ८, ४४) ।

लसुअ न [दे] तैल, तेल (दे ७, १८) ।

लसुण न [लसुण] लहसुन, कन्द-विशेष (आ २०) ।

लह देवा लभ । लहइ, लहेइ, लहए (महा, पि ४५७) । भवि लहिस्सामो (महा) ।

कर्म लहिज्जइ (हे ४, २४६) । वक्क लहव (प्राक्) । सक लहिज्ज, लहिऊण (कुप्र १, महा) लहेट्पि, लहेट्पिणु, लहेवि (अप, पि ५८८) । क लहणिज्ज, लहिअव्व (आ १४, सुर ६, ५३, सुपा ४२७) ।

ईशानेन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६, इक) ।

रामणिज्जअ न [रामणीयक] रमणीयता, सौन्दर्य (विक्र २८) ।

रामा स्त्री [रामा] १ स्त्री, महिला, नारी (तदु ५०, कुमा, पाद्म, वजा १०६, उप ३५७ टी) । २ नववें जिनदेव की माता (सम १५१) । ३ ईशानेन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६, इक) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) ।

रामायण न [रामायण] १ वाल्मीकि-कृत एक संस्कृत काव्यग्रन्थ (पउम २, ११६, महा) । २ रामचन्द्र तथा रावण की लड़ाई (पउम १०५, १६) ।

रामिअ वि [रमित] रमण कराया हुआ (गा ५६, पउम ८०, १६) ।

रामेसर पु [रामेश्वर] दक्षिण भारत का एक हिन्दू तीर्थ (सम्मत् ८४) ।

राय अक [राज्] चमकना, शोभना । रायइ (हे ४, १००) । वक्क रायं, रायमाण (कम्प) ।

राय देखो रा = रै । रामइ (प्राक् ६६) ।

राय पु [राम] १ प्रेम, प्रीति (प्रासू १८०) । २ मत्सर, द्वेष, 'न पेमराइल्ला' (देवेन्द्र २७८) । ३ रँगना, रजन । ४ वणन । ५ अनुराग । ६ राजा, नरपति । ७ चन्द्र, चाँद । ८ लाल वण । ९ लाल रँगवाली वस्तु । १० वसन्त आवि स्वर (हे १, ६८) ।

राय पु [राजन्] १ राजा, नर-पति, नरेश (आचा, उवा, आ २७, सुपा १०३) । २ चन्द्र, चन्द्रमा (आ २७, हम्मीर ३, धर्मवि ३) । ३ एक महाग्रह (सुज २०) । ४ इन्द्र । ५ क्षत्रिय । ६ यक्ष । ७ शुचि, पवित्र । ८ श्रेष्ठ, उत्तम (हे ३, ४६, ५०) । ९ इच्छा, अभिलाषा (से १, ६) । १० छन्द-विशेष (पिंग) । ईअ वि [कीय] राज-सवन्धी (प्राक् ३५) । उत पु [पुत्र] राज-पुत्र, राज-कुमार (सुर ३, १६५) । उल देखो राउल (हे १, २६७, कुमा, बड, प्राप्र, अमि १८४) । कीअ देखो ईअ (नाट—शकु १०४) । कुल देखो उल (महा) ।

केर, क वि [कीय] राज सवन्धी (हे २, १४८, कुमा, पड) । गिह न [गृह] मगध देश की प्राचीन राजधानी, जो आजकल 'राजगीर' नाम से प्रसिद्ध है (ठा १०—पत्र ४७७, उवा, अत) । गिहि स्त्री [गृही] वही अर्थ (ती ३) । चपय पु [चम्पक] वृक्ष-विशेष, उत्तम चम्पक-वृक्ष (आ १२) । धम्म पु [धर्म] राजा का कर्तव्य (नाट—उत्तर ४१) । धाणी स्त्री [धानी] राज-नगर, राजा का मुख्य नगर, जहाँ राजा रहता हो (नाट—चैत १३२) । पत्ती स्त्री [पत्नी] रानी (सुर १३, ५, सुपा ३७५) । पसेणीय वि [प्रसीय] एक जैन आगम-ग्रन्थ (राय) । प्ह पु [पथ] राज-मार्ग (महा, नाट—चैत १३०) । पिंड पु [पिण्ड] राजा के घर की भिक्षा—आहार (सम ३६) । पुत्त देखो उत्त (गउड) । पुर न [पुर] नगर-विशेष (पउम १, ८) । पुरिस पु [पुरुष] राजा का आदमी, राज-कर्मचारी (पउम २८, ४) । मग्ग पु [मार्ग] राजपथ, सड़क (औफ महा) । भास पु [भाष] धान्य विशेष, बरबटी (आ १८, सबोव ४३) । राय पुं [राज] राजाओं का राजा, राजेश्वर (सुपा १०७) । रिसि देखो राएसि (गाया १, ५—पत्र १११, उप ७२८ टी, कुमा, अण) । रुक्ख पु [वृक्ष] वृक्ष-विशेष (औफ) । लच्छी स्त्री [लक्ष्मी] राज-वैभव (अमि १३१, महा) । ललिय पु [ललि] आठवें बलदेव के पूर्व जन्म का नाम (सम १५३) । वट्टय न [वार्त्तक] राज-सवन्धी वात्ता-समूह (हे २, ३०) । वल्ली स्त्री [वही] लता-विशेष (परण १—पत्र ३६) । वाडिआ, वाडी स्त्री [पाटिका, पाटी] चतुरंग सैन्य-अम-करण, राजा की चतुर्विध सेना के साथ सवारी (कुमा, कुप्र ११६, १२०, सुपा २२२) । सद्दूल पु [शार्दूल] चक्रवर्ती राजा, श्रेष्ठ राजा (सम १५२) । सिट्टि पु [सिद्धि] नगर-सेठ (भवि) । सिरी स्त्री [श्री] राज-लक्ष्मी (से १, १३) । सुअ पुं [सुत] राजकुमार (कम्प, उप ७२८ टी) । सुअ पुं [शुक] उत्तम तोता (उप ७२८

टी) । सुअ पु [सूय] यज्ञ विशेष, 'पिइमे-हमाइमेहे रायसुए आसमेहपसुमेहे' (पउम ११, ४२) । सेण पु [सेन] छन्द-विशेष (पिंग) । सेहर पु [शेखर] १ महादेव, शिव । २ एक राजा (सुपा ५२६) । ३ एक कवि, कपूर्मजरी का कर्ता (कम्प) । हस पुंस्त्री [हस] १ उत्तम हस पक्षी । २ श्रेष्ठ राजा (सुर १२, ३४, गा ६२४, गउड, सुपा १३६, रमा, भवि) । स्त्री सी (सुपा ३३४, नाट—रत्ना २३) । हर न [गृह] राजा का महल (पउम ८२, ८६, हे २, १४४) । हाणी देखो धाणी, (सम ८०, पउम २०, ८) । हिराय, हिराय पु [अधिराज] राजाओं का राजा, चक्रवर्ती राजा (काल, सुपा १०५) । हिव पु [विप] वही अर्थ (सुपा १०५) ।

राय देखो राव = राव (से ६, ७२) ।

राय पु [दे] चटक, गौरैया पक्षी (दे ७, ४) ।

राय पु [रात्र] रात्रि, रात (आचा) ।

रायं देखो राय = राज् ।

रायल्लुअ पुन [दे] १ वेतस या वेंत का रायबु पेड (पाद्म, दे ७, १४) । २ पु-शरम (दे ७, १४) ।

रायस पु [राजास] राज-यक्ष्मा, क्षय का व्याधि (आचा) ।

रायसि वि [राजासिन्] राजयक्ष्मावाला, क्षय का रोगी (आचा) ।

रायगइ स्त्री [दे] जलोका, जोक (दे ७, ५) ।

रायग्गल पु [राजार्गल] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

रायणिअ देखो राइणिअ = राजिक (उव-श्रोत्रमा २२३) ।

रायणी स्त्री [राजादनी] खिली, खिलनी का पेड (पउम ५३, ७६) ।

रायण देखो राइण (ठा ३, १—पत्र ११४, उप ३५६ टी) ।

रायनीइ स्त्री [राजनीति] राजा की शासन करने की रीति (राय ११७) ।

रायमइया स्त्री [राजीमटिका] देखो राई-मई (कुप्र १) ।

रायस देखो राजस (स ३, से ३, १५) ।

लालप अक [वि + लप्] विलाप करना, विकल होकर रोना । लालपइ (प्राकृ ७३) ।
 लालपिअ न [दे] १ प्रवाल । २ खलीन । ३ आक्रन्दित (दे ७, २७) ।
 लालभ देखो लालप । लालभइ (प्राकृ ७३) ।
 लालण न [लालन] स्नेह पूर्वक पालन (पउम २६, ८८) ।
 लालप्प देखो लालप । लालप्पइ (प्राकृ ७३) ।
 लालप्प सक [लालप्प] १ खूब बकना । २ बारवार बोलना । ३ गहित बोलना । लालप्पइ (सूत्र १, १०, १६) । वक्क लालप्पमाण (उत्त १४, १०, आचा) ।
 लालप्पण न [लालपन] गहित जल्पन (परह १, ३—पत्र ४३) ।
 लालम्भ } देखो लालप । लालम्भइ, लालम्भइ लालम्ह } (प्राकृ ७३, धात्वा १५०) ।
 लालय न [लालरु] लाला, लार (दे ५, १६) ।
 लालस वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ स्त्रीन इच्छा (दे ७, २१) ।
 लालस वि [लालस] लम्पट, लोलुप (पाम्र, हे ४, ४०१) ।
 लाला स्त्री [लाला] लार, मुँह से गिरता जल लव (श्रोप, गा ५५१, कुमा, सुपा २२६) ।
 लालिअ देखो ललिअ, 'कुसुमिअहरिअदण-कणयदइपरिरभलालिअगीअ' (गउड) ।
 लालिअ वि [लालित] स्नेह पूर्वक पालित (भवि) ।
 लालिच (अप) पु [नालिच] वृत्त-विशेष (पिग) ।
 लालिह वि [लालावत्] लारवाला (सुपा ५३१) ।
 लाप सक [लापय्] बुलवाना, कहलाना । लापएअ (सूत्र १, ७, २४) ।
 लाप देखो लावग (उप ५०७) ।
 लापज न [दे] सुगन्धी सुण विशेष, उशीर, रास (दे ७, २१) ।
 लापक पु [लापक] १ पक्षि विशेष (विपा लापग) १, ७—पत्र ७५, परह १, १—पत्र ८) । २ वि. काटनेवाला (विसे ३२०६) ।
 लापणिअ वि [लापणिक] लवण से ससृक्त (विपा १, २—पत्र २७) ।

लावण्य } देखो लायण्य (श्रौप, रभा, काल, लावन्न } अग्नि ६२, भवि) ।
 लावय देखो लावग (उवा) ।
 लाविय (अप) वि [लात] लाया हुआ (भवि) ।
 लाविया स्त्री [दे] उपलोभन (सूत्र १, २, १, १८) ।
 लाविर वि [लावित्] काटनेवाला (गा ३५५) ।
 लास सक [लासय्] नाचना । लासति (राय १०१) ।
 लास न [लास्य] १ भरतशास्त्र-प्रसिद्ध गेयपद आदि (कुमा) । २ नृत्य, नाच (पाम्र) । ३ स्त्री का नाच । ४ वाद्य, नृत्य और गीत का समुदाय (हे २, ६२) ।
 लासक पु [लासक] १ रास गानेवाला । लासग } २ जय शब्द बोलनेवाला, भाएड (गाया १, १ टी—पत्र २, श्रौप, परह २, ४—पत्र १३२, कप्प) ।
 लासय पु [लासक, ह् लासक] १ अनार्य देश-विशेष । २ पु स्त्री अनार्य देश-विशेष का रहनेवाला । स्त्री 'सिया (श्रौप, गाया १, १—पत्र ३७, इक, अत) । देखो व्हासिया ।
 लासयविहय पु [दे लासकविहग] मयूर, मोर (दे ७, २१) ।
 लाह सक [लाह] प्रशसा करना । लाहइ (हे १, १८७) ।
 लाह देखो लाभ (उव, हे ४, ३६०, आ १२, गाया १, ६) ।
 लाहण न [दे] भोज्य भेद, खाद्य वस्तु की भेंट (दे ७, २१, ६, ७३, सट्टि ७८ टी, रभा १३) ।
 लाहल देखो गाहल (से १, २५६, कुमा) ।
 लाहव देखो लाघव (किरात १७) ।
 लाहवि देखो लाघवि (भवि) ।
 लाहविय देखो लाघविअ (राज) ।
 लािअ सक [लािप्] लेपन करना, लीपना । लािअइ (प्राकृ ७१) ।
 लािअ वि [लािअ] १ लीपा हुआ (गा ५२८) । २ न. लेप (प्राकृ ७७) ।
 लािआर पु [लािआर] 'ल' वर्ण (प्राकृ ६) ।
 लािक पु [दे] बाल, लडका (दे ७, २२) ।
 लािकिअ वि [दे] १ आक्षिप्त । २ लीन (दे ७, २८) ।
 लािवय देखो लख (सुपा ३५६) ।

लिग सक [लिङ्ग] १ जानना । २ गति करना । ३ आलिंगन करना । कर्म लिगिअइ (सबोध ५१) ।
 लिग न [लिङ्ग] १ चिह्न, निशानी (प्रासू २४, गउड) । २ दार्शनिको का वेष-धारण, साधु का अपने धर्म के अनुसार वेष (कुमा, विसे १५८५ टि, ठा ५, १—पत्र ३०३) । ३ अनुमान प्रमाण का साधक हेतु (विने १५५०) । ४ पृथ्वि, पुरुष का असाधारण चिह्न (गउड) । ५ शब्द का धर्म-विशेष, पुलिग आदि (कुमा, राज) । ६ ध्वज पु [ध्वज] वेषधारी साधु (उप ४८६) । ७ जीव पु [जीव] वही अर्थ (ठा ५, १) ।
 लिगि वि [लिङ्गिन्] १ साध्य, हेतु से जानी जाती वस्तु (विसे १५५०) । २ किसी धर्म के वेष को धारण करनेवाला, साधु, सन्यासी (पउम २२, ३, सुर २, १३०) । स्त्री 'णी (पुष्प ४५४) ।
 लिगिय वि [लिङ्गिक] १ अनुमान प्रमाण (विसे ६५) । २ किसी धर्म के वेष को धारण करनेवाला साधु, सन्यासी (मोह १०१) ।
 लिङ्ग न [दे] १ चुल्ही-स्थान, चुल्हा का आश्रय । २ अग्नि-विशेष (ठा ८ टी—पत्र ४१६) । देखो लिच्छ ।
 लिङ्ग न [दे] १ हाथी आदि की विष्ठा, गुजराती मे 'लीद' (गाया १, १—पत्र ६३, उप २६४ टी, ती २) । २ शैवल-रहित पुराना पानी (परह २, ५—पत्र १५१) ।
 लिङ्गिया स्त्री [दे] अज—बकरा आदि की विष्ठा, लेंडी, गुजराती मे 'लिडी' (उप पु २३७) ।
 लिन देखो ले = ला ।
 लिप सक [लिप्] लीपना, लेप करना । लिपइ (हे ४, १४६, प्राकृ ७१) । कर्म, लिप्पइ (आचा) । वक्क लिपेमाण (गाया १, ६) । कवक्क लिप्पत, लिप्पमाण (श्रोधभा १६५, रयण २६) ।
 लिपण न [लिपन] लेप, लीपना (पिड २४६, सुपा ६१६) ।
 लिपानिय वि [लिपित] लेप कराया हुआ (कुप्र १४०) ।
 लिपिय वि [लिपित] लीपा हुआ (कुमा) ।

रिक्ख वि [दे] १ वृद्ध, वृद्धा । २ पु. वय-परिणाम, वृद्धता (दे ७, ६) ।
 रिक्ख पु [ऋक्ष] १ भालू, खापद प्राणि-विशेष (हे २, १६) । २ न. नक्षत्र (पात्र, सुर ३, २६, ८, ११६) । ३ पह पु [पथ] शोकाश (सुर ११, १७१) । ४ राय पु [राज] वानर-वंश का एक राजा (पउम ८, २३४) ।
 रिक्खण न [दे] १ उपलम्भ, अधिगम । २ कथन (दे ७, १४) ।
 रिक्खा देखो रेहा = रेखा (शोध १७६) ।
 रिग } अक [रिडग] १ रेंगना, धीरे-धीरे
 रिग } और जमीन से रगड़ खाते हुए चलना ।
 २ प्रवेश करना । रिगइ, रिगइ (हे ४, २५६, टि) ।
 रिग पु [दे] प्रवेश (दे ७, ५) ।
 रिच खीन. देखो रिड = ऋच् (पि ५६, ३१८) । खी चा (नाट—रत्ना ३८) ।
 रिच्छ वि [दे] वृद्ध, वृद्धा (दे ७, ६) ।
 रिच्छ देखो रिक्ख = ऋक्ष (हे १, १४०, २, १६, पात्र) । ३ हिच पु [धिप] जाम्बवान्, राम का एक सेनापति (से ४, १८, ४५) ।
 रिच्छमल पु [दे] भालू, रीछ (दे ७, ७) ।
 रिजु देखो रिड = ऋच् (भग) ।
 रिजु देखो रिड = ऋजु (विसे ७८४) ।
 रिजु देखो रिअ = री । रिजइ (भावा) ।
 रिजु देखो रिड = ऋजु (हे १, १४१, सखि १७, कुमा) ।
 रिभ्भ अक [ऋध] १ बढना । २ रीफना, खुशी होना । रिभ्भइ (भवि) ।
 रिड पु [दे अरिड] १ अरिष्ट, बुरित (षड्, पि १४२) । २ दैत्य-विशेष (षड्; से १, ३) । ३ काक, कौआ (दे ७, ६, ख्याया १, १—पत्र ६३, षड्, पात्र) । ४ नेमि पु [नेमि] वाईसवें जिनदेव (पि १४२) ।
 रिड पु [रिड] १ देव-विशेष, रिड नामक विमाल का निवासी देव (ख्याया १, ८—पत्र १५१) । २ बेलम्ब और प्रभ-ब्जन नामक इन्द्रो के लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) । ३ एक हृत्त सांड, जिसको

श्रीकृष्ण ने मारा था (पह १, ४—पत्र ७२) । ४ पक्षि-विशेष (पउम ७, १७) । ५ न. रत्न-विशेष (चिदय ६१५, औप, ख्याया १, १ टी) । ६ एक देव-विमान (सम ३५) । ७ पुन फल-विशेष, रोठा (उत्त ३४, ४, सुख ३४, ४) । ८ पुरी खी [पुरी] कच्छावती-विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) । ९ मणि पु [मणि] श्याम रत्न-विशेष (सिदि ११६०) ।
 रिट्टा खी [रिष्टा] १ महाकच्छ विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) । २ पाँचवी नरक-भूमि (ठा ७—पत्र ३८८) । ३ मदिरा, दाह (राज) ।
 रिट्टाभ न [रिष्टाभ] १ एक देव-विमान (सम १४) । २ लोकांतिक देवों का एक विमान (पत्र २६७) ।
 रिट्टि खी [रिष्टि] १ खड्ग, तलवार (दे ७, ६) । २ अशुभ । ३ पु. रघ्न, विवर (सखि ३) ।
 रिड सक [मण्डय] विभूषित करना । रिडइ (षड्) ।
 रिण न [ऋण] १ करना या कर्ज, उधार लिया हुआ धन (गा ११३, कुमा, प्रासू ७७) । २ जल, पानी । ३ दुर्ग, किला । ४ दुर्ग भूमि । ५ आवश्यक कार्य, फरज । ६ कर्म (हे १, १४१, प्रासू) । देखो अण = ऋण ।
 रिणअ वि [ऋणित] करबदार, अधमणं (कुप्र ४३६) ।
 रिते अ [ऋते] सिवाय, विना (पिड ३७०) ।
 रिक्त वि [रिक्त] १ खाली, शून्य (से ७, ११, गा ४६०, धर्मवि ६; शोधभा १६६) । २ न विरेक, भ्रभाव (उत्त २८, ३३) ।
 रिचूडिअ वि [दे] शांति, भडवाया हुआ (दे ७, ८) ।
 रिथ न [रिथ] धन, द्रव्य (उप ५२०, पात्र, स ६०, सुख ४, ६, महा) ।
 रिद्ध वि [ऋद्ध] ऋद्धि सपन्न (ख्याया १, १, उवा; औप) ।
 रिद्ध वि [दे] पक, पक्का (दे ७, ६) ।
 रिद्धि पुंखी [दे] समूह, राशि (दे ७, ६) ।
 रिद्धि खी [ऋद्धि] १ सपत्ति, समृद्धि, वैभव (पात्र, विपा २, १, कुमा, सुर २, १६८,

प्रासू १२, ६२) । २ बुद्धि । ३ देव-विशेष । ४ शोधधि-विशेष (हे १, १२८, २, ४१, पचा ८) । ५ छन्द-विशेष (पिग) । ६ म, छ वि [भत्] समूह, ऋद्धि-सम्पन्न (शोध ६८४, पउम ५, ५६, सुर २, ६८, सुपा २२३) । ७ सुदरी खी [सुन्दरी] एक वणिक्-कन्या (उप ७२८ टी) ।
 रिपु देखो रिखु (कप्य) ।
 रिप्य न [दे] षुठ, पीठ (दे ७, ५) ।
 रिभिय न [रिभित] १ एक प्रकार का नाव (ठा ४, ४—पत्र २८५) । २ स्वर का धोलन । ३ वि. स्वर धोलना से युक्त (राज, ख्याया १, १—पत्र १३) ।
 रिमिण वि [दे] रोने की आदतवाला (दे ७, ७, षड्) ।
 रिरसा खी [रिरसा] रमण की चाह-मैथुनेच्छा (अशक ७६) ।
 रिरिअ वि [दे] लीन (दे ७, ७) ।
 रिद्ध अक [दे] शोभना । वद्ध रिद्धत (भवि) ।
 रिखु देखो रिड = रिपु (पउम १२, ४१, ४४, ५०, स १३८, उप ६२१) ।
 रिसभ पु [ऋषभ] १ स्वर-विशेष (ठा रिसइ ७—पत्र ३६३) । २ अहोरात्र का षठाइसवाँ सुहूर्त (सम ५१, सुज १०, १३) । ३ सहव अस्थि-द्वय के ऊपर का बलयाकार वेष्टन-पट्ट, रिसहो य होइ पट्टो (जीवस ४६) । देखो लसभ (औप; हे १, १४१, सम १४६, कम्म २, १६, सुपा २६०) ।
 रिसह पु [ऋषभ] श्रेष्ठ, उत्तम (कुमा) ।
 रिसि पु [ऋषि] मुनि, सत, साधु (औप कुमा, सुपा ३१, अवि १०१, उप ७६८ टी) । ४ घाय पुं [घात] मुनि हत्या (उप ४६६) ।
 रिह सक [प्र + विश] प्रवेश करना, पैठना । रिहइ (षड्) ।
 री } अक [री] जाना, चलना । रीयइ,
 रीअ } रीयत, रीयते, रीयत्ता (भावा, सुम १, २, २, ५, उत्त २४, ७) । सूका रीयत्ता (भावा) । वद्ध रीयत, रीयमाण (भावा) ।
 रीइ खी [रीति] प्रकार, ढग, पद्धति, 'त जण विडवति निचं नवनवरीइइ' (धर्मवि ३२, कप्य) ।

लुंखिअ वि [दे] कलुप, मलिन (सि १५, ४२) ।
 लुच सक [लुञ्च] १ बाल उखाडना । २ अपनयन करना, दूर करना । लु चइ (भवि) । भुका. लु चिमु (आचा) ।
 लुचिअ वि [लुञ्चित] केश-रहित किया हुआ, मुण्डित (कुप्र २६२, सुपा ६४१) ।
 लुञ्च सक [मृज्, प्र + उञ्च्] मार्जन करना. पोछना । लु छइ (हे ४, १०५, प्राक् ६७, धात्वा १५१) । वक्क लुञ्चत (कुमा) ।
 लुट सक [लुण्ट] लूटना । लुंठति (सुपा ३५२) । वक्क लुटत (धर्मवि ११३) । क्वक्क लुटिज्जत (सुर २, १४) ।
 लुटण न [लुण्टन] लूट (सुर २, ४६, कुमा) ।
 लुटाक वि [लुण्टाक] लूटनेवाला, लुटेरा (धमवि १२३) ।
 लुठग वि [लुण्ठक] खल, दुर्जन, 'चडवद-वेडिमा उवहसिज्जमाणा लुठगलोएण, अणु-कपिज्जतो धम्मिअजणेण' (सुख २, ६) ।
 लुंठिअ वि [लुण्ठित] बलाद् गृहीत, जबर-दस्ती से लिया हुआ (पिग) ।
 लुप सक [लुप्] १ लोप करना, विनाश करना । २ जपौडन करना । लु पइ, लु पहा (प्राक् ७१, सूअ १, ३, ४, ७) । कर्म लुपइ (अचा), लुपए (सूअ १, २, १, १३) । क्वक्क लुपत, लुपमाण (पि पि ५४२, उवा) । सक लुंपित्ता (पि ५८२) ।
 लुपइत्तु वि [लोपयित्] लोप करनेवाला (आचा, सूअ २, २, ६) ।
 लुपणा स्त्री [लोपना] विनाश (परह १, १—पत्र ६) ।
 लुपित्तु वि [लोप्त्] लोप करनेवाला (आचा) ।
 लुनी स्त्री [दे लुनी] १ स्तवक, फलो का पुच्छा (दे ७, २८, कुमा, गा ३२२, कुप्र ४६०) । २ लता, वल्की (दे ७, २८) ।
 लुफा अक [नि + ली] लुकना, छिपना । लुफइ (हे ४, ५५, पड्) । वक्क लुकत (कुमा, वजा ५६) ।

लुक अक [लुड्] लूटना । लुकइ (हे ४, ११६) ।
 लुक वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (षड्) ।
 लुक वि [निलीन] लुका हुआ, छिपा हुआ (गा ४६, ५५८, पिग) ।
 लुक वि [रुण] १ भग्न (कुमा) । २ बीमार, रोगी (हे २, २) ।
 लुक वि [लुञ्चित] मुण्डित, केश-रहित (कप्प, पिड २१७) ।
 लुकमाण देखो लोअ = लोक् ।
 लुक्खिअ वि [लुडित] लूटा हुआ, खण्डित (कुमा) ।
 लुक्खिअ वि [निलीन] लुका हुआ, छिपा हुआ (पिग) ।
 लुक्ख पु [रुक्ख] १ स्पर्श विशेष, लूका स्पर्श (ठा १, सम ४१) २ वि रुक्ख स्पर्शवाला, स्नेह रहित, लूका, रुखा (गाया १, १—पत्र ७३, कप्प, औप) । देखो लूह = रुक्खा ।
 लुग वि [दे. रुण] १ भग्न, भागा हुआ (दे ७, २३, हे २, २, ४, २५८) । २ रोगी, बीमार (हे २, २, ४, २५८ षड्) ।
 लुच्छ देखो लुञ्च = मृज् । लुच्छइ (षड्) ।
 लुट्ट सक [लुण्ट] लूटना । लुट्टइ (षड्) ।
 लुट्ट देखो लोट्ट = स्वप् । लुट्टइ (कुमा ६, १००) ।
 लुट्ट वि [लुण्टित] लूटा गया (धर्मवि ७) ।
 लुट्ट पु [लोष्ट] रोडा, डेला, ईंट आदि का टुकड़ा (दे ७, २६) ।
 लुड्ड देखो लुद्ध (प्राक् २१) ।
 लुड अक [लुट्] लुडकना, लेटना । वक्क लुडमाण (स २५४) ।
 लुडिअ वि [लुडित] लेटा हुआ (सुपा ५०३, स ३६६) ।
 लुग देखो लुअ = लू । लुणइ (हे ४, २४१) । कर्म. लुणिज्जइ, लुव्वइ (प्राप्र, हे ४, २४२) । सक लुणिऊण, लुणेऊण (प्राक् ६६, पड्), लुणेपि (अप) (पि ५८८) ।
 लुणिअ वि [लून] काटा हुआ (धर्मवि १२६, सिरि ४०४) ।
 लुत्त वि [लुम्] लोप-प्राप्त, 'करइ लुत्तो इकारो व' (वेइय ६७७) ।

लुत्त न [लोप्त्] चोरी का माल (आवक ६३ टी) ।
 लुद्ध पु [लुद्ध] १ व्याध (परह १, २, निच ४) । २ वि लोलुप, लम्पट (प्राप्र, विपा १, ७—पत्र ७७, प्रासू ७६) । ३ न लोभ (वृह ३) ।
 लुद्ध न [लोद्ध] गन्ध-द्रव्य-विशेष, 'सिण्णाण अट्टवा कक्कं लुद्ध पउमगाणि अ' (दस ६, ६४) । देखो लोद्ध = लोघ ।
 लुद्ध पुन [लोद्ध] क्षार-विशेष (आचा २, १३, १) ।
 लुपत लुपमाण } देखो लुंप ।
 लुभ अक [लुभ्] १ लोभ करना । लुभ } २ आसक्ति करना । लुभइ, लुभसि (हे ४, १५३, कुमा), लुभइ (षड्) । क्क. लुभियञ्च (परह २, ५—पत्र १४६) ।
 लुभ देखो लुह = मृज् । लुभइ (सक्ति ३५) ।
 लुरणी स्त्री [दे] वाद्य-विशेष (दे ७, २४) ।
 लुल देखो लुड । लुलइ (पिग) । वक्क. लुलत, लुलमाण (सुपा ११५, सुर १०, २३१) ।
 लुलिअ वि [लुठित] लेटा हुआ (सुर ४, ६८) ।
 लुलिअ वि [लुलित] घूर्णित, चलित (उवा, कुमा, काप्र ८६३) ।
 लुव देखो लुअ = लू । लुवइ (धात्वा १५१) । लुव्वं देखो लुण ।
 लुह सक [मृज्] मार्जन करना, पोछना । लुहइ (हे ४, १०५, षड्, प्राक् ६६, भवि) ।
 लुहण न [मार्जन] शुद्धि (कुमा) ।
 लूअ देखो लुअ = लून (पड्) ।
 लूआ स्त्री [दे] मृग-तृष्णा, सूर्य-किरण मे जल की भ्रान्ति (दे ७, २४) ।
 लूआ स्त्री [लूना] १ वातिक रोग-विशेष (पचा १८, २७, सुपा १४७, लहुअ १५) । २ जाल वनावेवाला कृमि, मकड़ी (शोध ३२३, दे) ।
 लूड [लुण्ट] लूटना, चोरी करना । लूडइ, लूडेइ, लूडेह (धर्मवि ८०, संवेग २६, कुप्र ५६) । हेक्क. लूडेड (सुपा ३०७, धर्मवि १२४) । प्रयो., वक्क. लूडावत (सुपा ३५२) ।

रुजिय, न [रवण] शब्द, आवाज, गर्जना
-(स ४२०)।

रुंठ देखो रुंज। रुंठइ (हे ४, ५७; षड्)।
वक्र रुंठत (स ६२, पञ्चम १०५, ५५,
गडड)।

रुंठणया ली [दे] श्रवणा, अनादर (पिंड
२१०)।

रुंठणिया ली [दे रवणिका] रोदन-क्रिया
(गाया १, १६—पत्र २०२)।

रुंठिन न [रुंठ] गुजारन, आवाज, 'रुंठिन
अलिबिरुंठ' (पात्र, कुमा)।

रुंड पुंन [रुण्ड] विना सिर का षड, कबन्ध,
'पडिया य मुंडरुंडा' (कुप्र १३५, गडड,
भवि, सण)।

रुंठ पुं [दे] आक्षिप्त, कितव, जूझाबी (दे
७, न)।

रुंठिअ वि [दे] सफल (दे ७, न)।

रुंठ वि [दे] १ विपुल, प्रचुर (दे ७, १४,
गा ४०२, सुपा २६३, वजा १२८, १६२)।
२ विशाल, विस्तीर्ण (विसे ७१०, स ७०२,
पव ६१, श्रौप)। ३ स्थूल, मोटा, पीन
(पात्र)। ४ सुखर, नाचाल (दे ७, १४)।

रुंदी ली [दे] विस्तीर्णता, लम्बाई (वजा
१६४)।

रुध सक [रुध्] रोकना, अटकाना। रुधइ
(हे ४, १३३, २१८)। कर्म, रुधिजइ,
रुधइ, रुधण (हे ४, २४५, कुमा)। वक्र
रुधत (कुमा)। कवक, रुधभत, रुधभमाण,
रुधभत (पञ्चम ७३, २६, से ४, १७,
भवि)। क रुधिअठत्र (अभि ५०)।

रुधिय अ वि [रुद्ध] रोका हुआ (कुमा)।

रुप पुन [दे] १ त्वचा, सूक्ष्म छाल (गा
११६, १२०, वजा ४२)। २ उल्लिखन
(वजा ४२)।

रुपण न [रोपण] रोपाना, वपन कराना,
चापन (पिंड १६२)।

रुफ देखो रूप (पि २०८)।

रुम देखो रुध। रुमइ (हे ४, २१८, प्राप्र)।
वक्र रुभत (पि ५३५)। क, रुभिअठव
(से ६, ३)।

रुभण न [रोवन] रोक, अटकान, श्रवरोध
(पणह १, १, कुप्र ३७७, गा ६६०)।

रुभय वि [रोधक] रोकनेवाला (स ३८१)।
रुभाविअ वि [रोधित] रुकवाया हुआ, बंद
क्रिया हुआ (भा २७)।

रुभिअ वि [रुद्ध] रोका हुआ (हेका ६६,
सुपा १२७)।

रुक्क न [दे] बैल आदि की तरह शब्द करना
(अणु २६)।

रुक्किणी देखो रुप्पिणी (पि २७७)।

रुक्ख पुन [वृक्ष] पेड़, गाछ, पादप (गाया
१, १, हे २, १२७, प्राप्र, उव, कुमा, जी
२७, प्रति ६, प्रासू १६८), 'रुक्खाइ,
रुक्खाणि' (पि ३५८)। २ समय, विरति
(सुप्र १, ४, १, २५)। 'मूल न [मूल]
पेड़ की जड़ (कस)। 'मूलिय पु [मूलिक]
बुध के मूल में रहनेवाला वानप्रस्थ (श्रौप)।
'सत्थ न [शास्त्र] वनस्पति-शास्त्र (स
३११)। 'अवेद पु [अवेद] वही अर्थ
(विसे १७७५)।

रुक्खल ऊपर देखो (षड्)।

रुक्खिम पुखी [वृक्षत्व] वृक्षपन (षड्)।

रुग वि [रुग्ण] भग्न, भांगा हुआ (पाथ,
गडड, ५६१)।

रुच } सक [दे] पीसना। रुचति, रुचति,
रुच } भुका, रुचिपु, रुचिपु, भवि, रुचिस्सति,
रुचिस्सति (भाचा २, १, ६, ५)।

रुचिर देखो रुइर (दे १, १४६)।

रुच अक [रुच्] रुचना, पसन्द पडना।
रुचइ, रुचण (वजा १०६, महा, सिरि
१०६, भवि)। वक्र रुचचत, रुचचमाण
(भवि, उप १४३ टी)।

रुच सक [दे] शीर्षि आदि को यन्त्र में
निस्तुप करना। वक्र रुचचत (गाया १,
७—पत्र ११७)।

रुच्चि देखो रुइ = रुचि (कपु)।

रुच्छ देखो रुमख (सवि १५)।

रुच्छि देखो रुप्पि (हे २, ५२, कुमा)।

रुज्ज न [रोवन] रुदन, रोना, 'वीहुएहा
शीसासा, रणरणो, रुज्जगणिर नेभ'
(गा ८४३)।

रुज्ज देखो रुध। रुज्जइ (हे ४, २१८)।

रुज्ज^० देखो रुइ = रुह^०।

रुज्जत देखो रुध।

रुक्किअ वि [रुद्ध] रोका हुआ (कुमा)।

रुद्धिया ली [दे] रोटी (सद्धि ३६)।

रुद्ध वि [रुद्ध] रोष युक्त (उवा, सुर २,
१२१)। २ पु नरकावास-विशेष (दिवेन्द्र
२८)।

रुणरुण न [दे] कलण क्रन्दन (भवि)।

रुणरुण अक [दे] कलण क्रन्दन करना।
रुणरुणइ (वज्जा ५०, भवि)। वक्र,
रुणरुणत (भवि)।

रुणरुण देखो रुणरुण (पञ्चम १०५, ५८)।

रुणरुणिय वि [दे] कलण क्रन्दनवाला (पञ्चम
१०५, ५८)।

रुणन न [रुदित] रोदन, रोना (हे १, २०६,
प्राप्र, गा १८)।

रुते देखो रिते (वव ४)।

रुथिणी देखो रुप्पिणी (षड्)।

रुदिअ देखो रुण (नाट—मालती १०६)।

रुइ पु [रुद्र] १ महादेव, शिव (सम्मत
१४५, हेका ५६)। २ शिव श्रुति-विशेष
(गाया १, १—पत्र ३६)। ३ जिन देव,
जिन भगवान् (पञ्चम १०६, १२)। ४ पर-
माध्यात्मिक देवों की एक जाति (सम १८)।
५ नृप-विशेष, एक नासुदेव का पिता (पञ्चम
२०, १८२, सम १५२)। ६ ज्योतिष्क
देव-विशेष (डा २, ३—पत्र ७७, सुज्ज
१०, १२)। ७ अग्न-विद्या का जानकार पुरुष
(विचार ४८४)। ८ वि भयकर, भय-जनक
(सम्मत १४५)। देखो रोइ = रुद्र।

रुइ देखो रोइ = रौद्र (सम ६)।

रुइख पु [रुद्राक्ष] वृक्ष-विशेष (पञ्चम
५३, ७६)।

रुइणी ली [रुद्राणी] शिव पत्नी, दुर्गा
(सपु १५४)।

रुइ वि [रुद्ध] रोका हुआ (कुमा)।

रुइ देखो रुइ (हे २, ८०)।

रुइ देखो रुण (सुर २, १२६)।

रुप सक [रोपय्] रोपना, बोना, 'सद्धार-
भरियवेसे रुप्पति धत्तूरय तुम वच्छे' (धर्मवि
६७)।

रुप न [रुक्म] १ काञ्चन, सोना। २
तोहा। ३ घत्तूर। ४ नागकेसर (प्राप्र)।
५ चांदी, रजत (ज ४)।

में निमित्त-भूत कृष्णादि द्रव्य (भग, उवा, भ्रोप, पव १५२, जीवस ७४, सवोष ४८, पएण १७, कम्म ४, १, ३१)।

लेसा ली [लेश्या] ज्वाला (राय ५६, ५७)।
लेसिय वि [श्लेषिन] श्लेष-युक्त (स ७६२)।
लेसुरुडयतरु पुं [दे] लसोडा, गुं गू दा (चउप्पन्नं पत्र २४३)।

लेस्मा देखो लेसा (भग)।
लेह देखो लिह = लिह्। लेहह (प्राकृ ७०)।
लेह देखो लिह = लिह्। लेहह (प्राकृ ७०)।
लेह (अप) देखो लह = लम्। लेहह (पिग)।
लेह पु [लेह] अथलेह, चाटन (पउम २, २८)।

लेह पु [लेह] १ लिखना, लेखन, अक्षर-विन्याम (गा २४४, उवा)। २ पत्र, चिट्ठी (कप्प)। ३ देव, देवता। ४ लिपि। ५ वि लेख्य, जो लिखा जाय (हे २, १८६)। ६ लेखक, लिखनेवाला, 'अजवि लेहत्तणे तएहा' (वजा १००)। 'वाह वि [वाह] चिट्ठी ले जानेवाला, पत्र-वाहक (पउम ३१, १, सुपा ५१६)। 'वाहग, 'वाहय वि [वाहक] वही अर्थ (सुपा ३३१, ३३२)। 'साला ली [शाला] पाठशाला (उप ७२८ वी)। 'रिय पु [रिचर्य] उपाध्याय, शिक्षक (महा)।

लेहड वि [दे] लम्पट, लुब्ध (दे ७, २५, उव)।

लेहण न [लेहन] चाटन, आस्वादन (पउम ३, १०७)।

लेहणी ली [लेपनी] कनम, लेखनी (पउम २६, ५, गा २४४)।

लेहल देखो लहड (गा ४६१)।

लेहा देखो लिहा (भ्रोप, कप्प, कप्प, कुप्र ३६६, स्वप्न ५२)।

लेहिय वि [लेसिन] लिखवाया हुआ (ती ७)।

लेहुड पु [द] लोष्ठ, रोड़ा, डेना (दे ७, २४)।

लोअ अगो रोअ = रोचय्। सहु लाएया (तत्र)।

लोअ सग [लोक्, लोकर] देवना। वक् रोअअत (नाट)। क्वरु लुक्कमाण (उप १२२ वी)। सहु लोइउ (कुप्र ३)।

लोअ पुं [लोक] १ घर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो का आघार-भूत आकाश-क्षेत्र, जगत, ससार, भुवन। २ जीव, अजीव आदि द्रव्य। ३ समय, आवलिका आदि काल। ४ गुण, पर्याय, धर्म। ५ जन, मनुष्य आदि प्राणि-वर्ग (ठा १—पत्र १३, टी—पत्र १४, भग, हे १, १८०, कुमा, जी १४, प्रासु ५२, ७१, उव, सुर १, ६६)। ६ आलोक, प्रकाश (वजा १०६)। गगं न [गग] १ ईषट्भागभारा नामक पृथिवी, मुक्त-स्थान (एयाया १, ५—पत्र १०५, इक)। २ मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण (पात्र)। 'गगथूभिआ ली [गगस्तूपिका] मुक्त-स्थान, ईषट्भागभारा पृथिवी (इक)। 'गगपडिवुडम्भणा ली [गगप्रतिबोधना] वही अर्थ (इक)। 'णाभि पु [नाभि] मेरु पर्वत (सुज ५)। 'पवाय पु [प्रवाद] जन-श्रुति, कहावत (सुर २, ४७)। 'मउम पु [मध्य] मेरु पर्वत (सुज ५)। 'वाय पुं [वाद] जन-श्रुति, लोकोक्ति (स २६०, मा ४८)। 'गास पुं [काश] लोक-क्षेत्र, आलोक-भिन्न आकाश (भग)। 'हाणय न [भागण] कहावत, लोकोक्ति (भवि)। देखो लोग।

लोअ पु [लोच] लुब्धन, नोचना, केशो का उत्पादन, उखाडना (सुपा ६४१, कुप्र १७३, एयाया १, १—पत्र ६०, भ्रौप, उव)।

लोअ पु [लोप] अदर्शन, विध्वंस (चेइय ६६१)।

लोअतिय पु [लोकान्तिक] एक देज-जाति (कप्प)।

लोअग न [दे लोचक] गुण-रहित अन्न, खराब नाज (कम)।

लोअडो (अप) ली [लोमपटी] कम्बल (हे ४, ४२३)।

लोअण पुन [लोचन] आँख, चक्षु, नेत्र (हे १, ३३, २, १८४, कुमा, पात्र, सुर २, २२२)। 'वत्त न [पत्र] अक्षि लोम, बरवनी, पक्ष (स ६, ६८)।

लोअणिल वि [लोचनवत्] आँखवाला (सुपा २००)।

लोआणी ली [दे] वनस्पति विशेष (पएण १—पत्र ३६)।

लोइअ वि [लोकिन] निरीक्षित, दृष्ट (गा २७१, स ७१३)।

लोइअ वि [लौकिक] लोक-संबन्धी, सांसारिक (आचा, विपा १, २—पत्र ३०, एयाया १, ६—पत्र १६६)।

लोउत्तर वि [लोकोत्तर] लोक-प्रधान, लोक-श्रेष्ठ, असाधारण, 'लोउत्तर चरिअ' (आ १६, विसे ८७०)। देखो लोगुत्तर।

लोउत्तरिय वि [लोकोत्तरिक] ऊपर देखो (आ १)।

लौक वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ७, २३)।

लोग पु [लोक] मान-विशेष, श्रेणी से गुणित प्रतर (अणु १७३)। 'यत देखो 'यय (अणु ३६)।

लोग देखो लोअ = लोक (ठा ३, २, ३, ३—पत्र १४२, कप्प, कुमा, सुर १, ७६, हे १, १७७, प्रासु २५, ४७)। ७ न एक देव-विमान (सम २५)। 'कत ज [कान्त] एक देव-विमान (सम २५)। 'कूड न [कूट] एक देव विमान (सम २५)। 'गगचूलिआ ली [गगचूलिका] मुक्त-स्थान, सिद्धि-शिला (सम २२)। 'जत्ता ली [यात्रा] लोक-व्यवहार, रोजी (एयाया १, २—पत्र ८८)। 'ट्टि ली [स्थिति] लोक-व्यवस्था (ठा ३, ३)। 'द्वज न [द्रव्य] जीव, अजीव आदि पदार्थ-समूह (भग)। 'नाभि पु [नाभि] मेरु पर्वत (सुज ५ टी—पत्र ७७)। 'नाह पु [नाथ] जगत् का स्वामी, परमेश्वर (सम १, भग)। 'परिपूरणा ली [परिपूरणा] ईषट्भागभारा पृथिवी, मुक्त-स्थान (सम २२)। 'पाल पु [पाल] इन्द्रो के दिक्पाल, देव-विशेष (ठा ३, १, भ्रौप)। 'पपभ पु [प्रभ] एक देव-विमान (सम २५)। 'विटुसार पुन [विन्दुसार] चौदहवाँ पूर्व-ग्रन्थ (सम ४४)। 'मउभावसिअ पुन [मध्यावसित] अभिनय-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५)। 'मउभावसाणिअ पुन [मध्यावसानिक] वही अर्थ (राय)। 'रुव न [रूप] एक देव-विमान (सम २५)। 'लेस न [लेश्य] एक देव-विमान (सम २५)। 'वणण न [वर्ण] एक देव-विमान (सम २५)।

रूढ वि [रूढ] उगा हुमा, उत्पन्न (दस ७, ३५) ।

रूढि जी [रूढि] परम्परा से चली आती प्रसिद्धि, 'पोसहस होख्दोए एत्य पन्वाणुवायधो भण्यो' (सुपा ६१६, कम्प) ।

रूप पुं [रूप] पशु, जानवर (मुच्छ २००) ।
रूअ = रूप (ठा ६—पत्र ३६१) ।

रूपि पु [रूपिन्] सौनिक, कसाई (मुच्छ २००) ।

रुरुइय न [दे] उत्सुकता, रणरणक (पात्र) ।

रुव पुन [रूप] १ आकृति, आकार (खाया १, १, पात्र) । २ सौन्दर्य, सुन्दरता (कुमा, ठा ४, २, प्रासू ४७, ७१) । ३ वर्ण, शुक्ल आदि रंग (श्रीम, ठा १, २, ३) । ४ मूर्ति (विसे १११०) । ५ स्वभाव (ठा ६) । ६ शब्द, नाम । ७ श्लोक । ८ नाटक आदि दृश्य काव्य (हे १, १४२) । ९ एक की सख्या, एक (कम्म ४, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१) । १०—११ रूपवाला, वर्णवाला (हे १, १४२) । १२—देखो रूअ, रूप = रूप ।
कता देखो रूअ-कता (ठा ६—पत्र ३६१, इक) ।
जक्ख पु [यक्ष] धर्मपाठक (व्यव० भा० गा० ६१४) ।
धार वि [धार] ह्य-वारी, 'जलपरमच्चगएण अणे-यमच्छाइइवधारेण' (खा ६) ।
पभा देखो रुअ-पभा (इक) ।
मत देखो वत (पत्रम १२, ५७, ६१, २६) ।
वई जी [वती] १ भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ६—पत्र ३६१) । २ मुख्य नामक भूतेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ३ एक दिक्कुमारी महत्तरिका (ठा ६) ।
वत, र्स्मि वि [वत्] रूपवाला, सुरूप (शा १०, चवा, उप पृ ३३२, सुपा ४७४, उव) ।

रुवग पुन [रूपठ] १ खया (उप पृ २८०, धम्म ८ टी, कुप्र ४१४) २ साहित्य-प्रसिद्ध एक अलंकार (सुर १, २६, विसे ६६६ टी) ।
देखो रूअग = रूपक ।

रुवमिणी जी [दे] रुवती जी (दे ७, ६) ।

रुवय देखो रुवग (कुप्र १२३, ४१३, भास ३४) ।

रुवमिणी देखो रुवमिणी (षड्) ।

रूवा देखो रूआ (इक) ।

रूवि वि [रूपिन्] ह्यवाला (आचा, भग, स ८३) ।

रूवि पुत्री [दे] गुच्छ विशेष, अर्क-बुल, आक का पेठ (पएण १—पत्र ३२, दे ७, ६) ।

रूस अक [रूप्] गुस्ता करना । रूसइ, रूसए (उव, कुमा; हे ४, २३६, प्राकृ ६८, षड्) । कर्म रुसिज्जइ (हे ४, ४१८) । हेक रुसिउ, रूमेउ (हे ३, १४१, पि ५७३) । कृ रुसिअन्व, रूसेयन्व (गा ४६६, पएह २, ५—पत्र १५०, सुर १६, ६४) । प्रयो, सकृ रूसविअ (कुमा) ।

रूसग न [रोषण] १ रोप, गुस्ता (गा ६७५, हे ४, ४१८) । २ वि. गुस्ताखोर, रोष करने-वाला (सुख १, १४, सबोध ४८) ।
रूसिअ वि [रुथ] रोप-युक्त (सुख १, १३, १६) ।

रे अ [रे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ परिहास । २ अविशेष (सक्ति ४७) । ३ सभाषण (हे २, २०१, कुमा) । ४ आक्षेप (सक्ति ३८) । ५ तिरस्कार (पव ३८) ।

रेअ पु [रेतस्] वीर्य, शुक (राज) ।

रेअव सक [मुच्] छोडना, त्यागना । रेअ-वइ (हे ४, ६१) ।

रेअविअ वि [मुक्त्] छोड हुमा, त्यक्त (कुमा; दे ७, ११) ।

रेअविअ वि [दे रेचिन्] क्षणीकृत, शून्य किया हुमा, खाली किया हुमा (दे ७, ११, पात्र. से ११, २) ।

रेआ जी [रै] १ धन । २ सुवर्ण, सोना (षड्) ।

रेइअ वि [रेचित्] रिक्त किया हुमा (से ७, ३१) ।

रैकिअ वि [दे] १ आक्षिप्त । २ लीन । ३ श्रोडित, लज्जित (दे ७, १४) ।

रेकार पु [रेकार] 'रे' शब्द, 'रे' की आवाज (पव ३८) ।

रेट्टि देखो रिट्टि (सक्ति ३) ।

रेणा जी [रेणा] महर्षि स्पृवभद्र की एक भगिनी, एक जैन साध्वी (कम्म, पडि) ।

रेणि पुत्री [दे] पञ्च, कदम (दे ७, ६) ।

रेणु पुत्री [रेणु] १ रज, धूली (कुमा) । २ पराग (स्वप्न ७६) ।

रेणुया जी [रेणुका] शोष-विशेष (पएण १—पत्र ३६) ।

रेभ पुं [रेफ] १ 'र' अक्षर, रकार (कुमा) । २ वि. डुट । ३ शवभ, नीच । ४ क्रूर, निर्दय । ५ कृपण, गरीब (हे १, २३६, षड्) ।

रेरिज्ज अक [राराज्य] प्रतिगय शोभना । वकृ, रेरिज्जमाण (खाया १, २—पत्र ७८, १, ११—पत्र ७७१) ।

रेल सक [प्लावय्] सराबोर करना । वकृ, रेहत्त (कुमा) ।

रेलि जी [दे] रेल, लोट, प्रवाह (राज) ।
रेवइनक्खत्त पु [रेवतीनक्षत्र] आर्य नाग-हस्ती के शिष्य एक जैन भुनि (एदि ५१) ।

रेवइय पुं [रेवतिक] स्वर-विशेष, रैवत स्वर (अणु १२८) ।

रेवइय न [रेवतिक] एक उद्यान का नाम (कम्म) ।

रेवइआ जी [रेवतिका] भूत ग्रह विशेष (सुख २, १६) ।

रेवई जी [रेवती] १ बलदेव की जी (कुमा) । २ एक आदिका का नाम (ठा ६—पत्र ४५५, सम १५४) । ३ एक नक्षत्र (सम ५७) ।

रेवई जी [दे रेवती] मातृका, देवी (दे ७, १०) ।

रेवत पु [रेवन्त] सूर्य का एक पुत्र, देव-विशेष, 'रेवततणुभवा इव अस्सकिसोरा सुलक्खणियो' (धर्मवि १४२, सुपा ५६) ।

रेवज्जिअ वि [दे] उपालब्ध (दे ७, १०) ।

रेवण पु [रेवण] व्यक्ति-वाचक नाम, एक साधारण काव्य ग्रथ का कर्ता (धर्मवि १४२) ।

रेवय न [दे] प्रणाम, नमस्कार (दे ७, ६) ।

रेवय पु [रैवन्] गिरनार पर्वत (खाया १, ५—पत्र ६६, अत, कुप्र १८) ।

रेवय पु [रैवत्] स्वर विशेष (अणु १२७) ।

रेवलिआ जी [दे] बालुकावर्त, धूल का आवर्त (दे ७, १०) ।

रेवा जी [रेवा] नदी-विशेष, नर्मदा (गा ५७८, पात्र, कुमा प्रासू ६७) ।

(ठा ६—पत्र ३६५) । °च्युअ पु [°च्युत] रत्नप्रभा-नरक का एक नरक-स्थान (उवा) ।

लोलुचाविअ वि [दे] रचित-तृष्ण, जिसने तृष्णा की हो वह (दे ७, २५) ।

लोलुय देखो लोलुअ (सूअ २, ६, ४४) ।

लोच सक [लोपय] लोप करना, विध्वंस करना । लोवेद (महा) ।

लोच पुन [लोप] विध्वंस, विनाश, अदर्शन, 'कम-लोचकारया' (कुप्र ४), 'आ उठ्ठे जासु वहि लोच व तुम अदसणा होसु' (धमवि १३३) ।

लोह देखो लोभ = लोभ (कुमा, प्रासू १७६) ।

लोह पुन [लोह] १ धातु-विशेष, लोहा (विपा १, ६—पत्र ६६, पात्र, कुमा) । २ धातु, कोई भी धातु, 'जह लोहाण सुचन्न त्थाण घन्न घणाण रयणाइ' (सुपा ६३६) । °कार पु [°कार] लोहार (कुप्र १८८) । °जघ पु [°जघ] १ भारत में उत्पन्न द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा (सम १५४) । २ राजा चरडप्रद्योत का एक दूत (महा) । °जघवण न [°जघवन] मथुरा के समीप का एक वन (ती ७) ।

लोह वि [लोह] लोहे का, लोह-निमित्त (से १४, २०) ।

लोहगिणी वी [लोहाङ्गिणी] छन्द-विशेष (पिग) ।

लोहल पु [लोहल] शब्द-विशेष, अग्न्यक्त शब्द (पड) ।

लोहार पु [लोहकार] लोहार, लोहे का काम करनेवाला शिल्पी (दे ८, ७१; ठा ८—पत्र ४१७) ।

लोहि° } देखो लोही, 'कुभोसु य पयोसु लोहिअ° } य लोहियसु य कटुलोहिकुभोसु' (सूअनि ८०, ७६) ।

लोहिअ पु [लोहित] १ लाल रंग, रक्त-वर्ण । २ वि रक्त वर्णवाला, लाल (से २, ४, उवा) । ३ न रुधिर, खून (पउम ५, ७६) । ४ गोत्र विशेष, जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है (ठा ७—पत्र ३६०) ।

लोहिअक पु [लोहित्यक, लोहिताङ्क] अठासी महाग्रहों में तीसरा महाग्रह (सुज्ज २०) ।

लोहिअक्ख पु [लोहिताक्ष] १ एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७७) । २ चमरेन्द्र के महिष-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक) । ३ रत्न की एक जाति (एयाया १, १—पत्र ३१, कप, उत ३६, ७६) । ४ एक देव विमान (देवेन्द्र १३२, १४४) । ५ रत्नप्रभा पृथिवी का एक काण्ड (सम १०४) । ६ एक पर्वत-कूट (इक) ।

लोहिआ } अक [लोहिताय] लाल लोहिआअ } होना । लोहिआइ, ओहिआअइ (हि ३, १३८, कुमा) ।

लोहिआसुह पु [लोहितामुख] रत्नप्रभा का एक नरकावास (स ८८) ।

लोहिच्च पु [लोहित्य] आचार्य भूतदिन के शिष्य एक जैन मुनि (एदि ५३) ।

लोहिच्च } न [लौहित्यायन] गोत्र-विशेष लोहिच्चायण } (सुज्ज १०, १६ टी, इक, सुज्ज १०, १६) ।

लोहिणी } वी [दे] वनस्पति-विशेष, कन्द-लोहिणीहू } विशेष (परए १—पत्र ३५), 'लोहिणीहू य थोहू य' (उत ३६, ६६, सुख ३६, ६६) ।

लोहिहल वि [दे लोभिन्] लम्पट, लुब्ध (दे ७, २५, पउम ८, १०७, गा ४४४) ।

लोही वी [लौही] लोहे का बना हुआ भाजन-विशेष, कराह (उप ८३३, चार १) ।

लहस देखो लस = लस् । लहसइ (प्राक ७२) ।

लहस अक [स्सस्] खिसकना, सरकना, गिर पडना । लहसइ (हे ४, १६७, षड्) । वक. लहसत (वज्जा ६०) ।

लहसण न [स्ससन] खिसकना, पतन (सुपा ५५) ।

लहसाव सक [स्ससय] खिसकाना । सक. लहसाविअ (सुपा ३०८) ।

लहसाविअ वि [स्ससित] खिसकाया हुआ (कुमा) ।

लहसिअ वि [स्सस्त] खिसक कर गिरा हुआ (कुप्र १८७, वज्जा ८४) ।

लहसिअ वि [दे] हर्षित (वड) ।

लहसुण देखो लसुण (परए १—पत्र ४०, पि २१०) ।

लहादि वी [ह्लादि] आह्लाद, प्रमोद, खुशी (राज) ।

लहाय पु [ह्लाद] ऊपर देखो (धमंस २१६) ।

लहासिय पु [लहासिक] एक अनार्य मनुष्य-जाति (परह १, १—पत्र १४) ।

लिहक अक [नि + ली] छिपना । लिहकइ (हे ४, ५५, षड् २०६) । वक. लिहकत (कुमा) ।

लिहक वि [दे] १ नष्ट (हे ४, २५८) । २ गत (पड) ।

॥ इअ सिरिपाइअसद्महण्णवम्मि लअाराइसद्सकलयो चउत्तीसइमो तरगो समत्तो ॥

रोमथ पु [रोमन्थ] पयुराना, चवाई हुई वस्तु का पुन चवाना, पापुर (से ६, ८७, पात्र, सण) ।

रोमथ } अक [रोमन्थय] चवाई हुई
रोमथाअ } चीज का फिर से चवाना, पयु-
राना, जुगाली करना । रोमथइ (हे ४, ४३) ।
वक्र. रोमथाअमाण (चार ७) ।

रोमग } पु [रोमक] १ अनायँ देश-विशेष,
रोमय } रोम देश (पत्र २७४) । २ रोम
देश मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (पएह १,
१—पत्र १४) ।

रोमय पु [रोमज] पक्षि-विशेष, रोम की
पाँखवाला पक्षी (जी २२) ।

रोमराइ ली [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२) ।

रोमलयासय न [दे] घेठ, उदर (दे ७, १२) ।

रोमस वि [रोमश] रोम-युक्त, रोमवाला
(दे ३, ११, पात्र) ।

रोमूसल न [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२) ।

रोर पु [रोर] चौथी नरक-भूमि का एक
नरकावास (ठा ४, ४—पत्र २६५) ।

रोर वि [दे] रक, गरीब, निर्बल (दे ७, ११,
पात्र, सुर २, १०५, सुपा २६६) ।

रोरु पु [रोरु] सातवी नरक पृथिवी का एक
नरकावास (देवेन्द्र २४, इक) ।

रोरुअ पु [रोरक, रौरव] १ रत्नप्रभा नरक-
पृथिवी का दूसरा नरकेन्द्रक—नरकावास-
विशेष (देवेन्द्र ३) । २ रत्नप्रभा का तैरहवाँ
नरकेन्द्रक (देवेन्द्र ५) । ३ सातवी नरकपृथिवी
का एक नरकावास—नरक-स्थान (ठा ५,
३—पत्र ३४१, सम ५८, इक) । ४ चौथी
नरक-भूमि का एक नरकावास (ठा ४, ४—
पत्र २६५) ।

रोल पु [दे] १ कलह, कगडा (दे ७, १५) ।
२ रव, कोलाहल, कलकल आवाज (दे ७,
१५, पात्र, कुमा, सुपा ५७६, वेइय १८४,
मोह ५) ।

रोलव पु [दे. रोलम्ब] भ्रमर, मधुकर (दे
७, २, कुप्र ५८) ।

रोला ली [रोला] छन्द-विशेष (पिंग) ।

रोव देखो रुअ=रुद । रोवइ (हे ४, २२६,
-सखि ३६; प्राङ् ६८, पड्, महा, सुर १०,
१७१, भवि) । वक्र रोवत, रोवमाण (पत्रम
१७, ३७, सुर २, १२४, ६, २३५, पत्रम

११०, ३५) । सक्र. रोविऊण (पि ५८६) ।
हेङ् रोविउ (स १००) ।

रोव पु [दे रोप] पौधा, गुजराती मे 'रोपो'
(सम्मत १४४) ।

रोवण न [रोदन] रोना (सुर ६, ७६) ।

रोवण न [रोपण] वपन, बीज बोना (वव
१) ।

रोवाविअ देखो रोआविअ (वज्जा ६२) ।

रोविअ वि [रोपित] १ बोया हुआ । २
स्थापित (से १३, ३०) ।

रोविदय न [दे] गेय-विशेष, एक प्रकार का
गान (ठा ४, ४—पत्र २८५) ।

रोविर देखो रोइर (दे ७, ७, कुमा, हे २,
१४५) ।

रोविर वि [रोपयितृ] बोनेवाला (हे २,
१४५) ।

रोस देखो रूस । रोसइ (?) (घात्वा १५०) ।

रोस पु [रोष] गुस्सा, क्रोध (हे २, १६०,
१६१) । इत्, इत्त वि [वत्] रोष-
(सखि २०, प्राप्र) ।

रोसण वि [रोषण] रोष करनेवाला, गुस्साखोर
(उप १४७ दो, सुख १, १३) ।

रोसविअ वि [रोषित] कोपित, कुपित किया
हुआ (पत्रम ११०, १३) ।

रोसाण सक [मूज्] मार्जन करना, शुद्ध
करना । रोसाणइ (हे १, १०५, प्राङ् ६६,
षड्) ।

रोसाणिय वि [मूट्] शुद्ध किया हुआ,
मार्जित (पात्र, कुमा, पिंग) ।

रोसिय देखो रोसविअ (पत्रम ६६, ११,
भवि) ।

रोह अक [रुह्] उत्पन्न होना । रोहति
(गउड) ।

रोह देखो रुध । सक्र रोहिऊण, रोहेउ
(काल, बृह ३) ।

रोह पु [रोध] १ बेरा, नगर आदि का सैन्य
से वेष्टन (गाया १, ८—पत्र १४६, उप पृ
८४, कुप्र १५८) । २ रक्षावट, रोक, अटकाव
(कुप्र १, द्रव्य ४६) । ३ कैद (पुम्फ १८६) ।

रोह पुं [रोधस्] तट, किनारा (पात्र) ।

रोह पु [रोह] १ एक जैन मुनि (भग) । २
प्ररोह, ब्रण आदि का सूख जाना (दे ६,
६५) । ३ वि रोहक, रोहण-कर्ता (भवि) ।
रोह पु [दे] १ प्रमाण । २ नमन । ३ मार्गण
(दे ७, १६) ।

रोहग वि [रोधक] बेरा डालनेवाला, अटकाव
करनेवाला, 'रोहगसजुतीए रोहिभो कुमारण'
(स ६३५), 'रोहगसजुती उरा कीरज' (सुर
१२, १०१) ।

रोहग देखो रोह=रोव (स ६३५, सुर
१२, १०१) ।

रोहग पुं [रोहक] एक नट-कुमार (उप पृ
२१५) ।

रोहगुत्त पु [रोहगुम्] १ एक जैन मुनि
(कम्प) । २ वैराशिक मत का प्रवर्तक एक
आचार्य (विसे २४५२) ।

रोहण न [रोधन] १ अटकाव (आरा ७२) ।
२ वि रोकनेवाला (द्रव्य ३४) ।

रोहण व [रोहण] १ चढना, आरोहण (सुपा
४३८, कुप्र ३६६) । २ उत्पत्ति (विसे
१७५३) । ३ पुं पर्वत-विशेष (सुपा ३२-
कुप्र, ६) । ४ एक विगहस्ति-कूट (इक) ।

रोहिअ [दे] देखो रोवम्क (दे ७, १२, पात्र,
पएह १, १—पत्र ७) ।

रोहिअ वि [रोधित] बेरा हुआ, 'रोहिय
पावसियुर तेण' (वर्मवि ४२, कुप्र ३६६, स
६३५) ।

रोहिअ वि [रोहित] १ सुखाया हुआ (वाव)
(उप पृ ७६) । २ पु द्वीप-विशेष (ज ४) ।
३ पु मत्स्य विशेष (स २५७) । ४ न. वृण-
विशेष (पएण १—पत्र ३३) । ५ कूट-
विशेष (ठा २, ३, ८) ।

रोहिअस पु [रीहितांश] एक द्वीप (ज ४) ।

रोहिअंस } ली [रोहिताशा] एक नदी
रोहिअसा } (सम २७, इक) । पवाय पु
[प्रपात] ब्रह्म-विशेष (ठा २, ३, ज ४) ।

रोहिअपवाय पु [रोहिताप्रपात] ब्रह्म विशेष
(ठा २, ३—पत्र ७२) ।

रोहिआ ली [रोहित, रोहिता] एक नदी
(सम २७, इक, ठा २, ३—पत्र ७२, ८०) ।

रोहिआ ली [रोहिटा] एक नदी (इक) ।

रोहिणिय पु [रोहिणिय] एक प्रसिद्ध चोर का
नाम (था २७) ।

वइदेही स्त्री [वैदेही] १ राजा जनक की स्त्री, सीता की माता (पउम २६, ७५) । २ जन-कात्मजा, सीता । ३ हरिदा, हल्दी । ४ पिप्पली, पीपल । वणिक्-स्त्री (सक्ति ५) ।

वइधम्म न [वैधम्म] विरुद्धधम्मंता, विपरीत-पन (विसे ३२२८) ।

वइमिस्स वि [ज्यतिमिश्र] समिलित (ध्यात्ता २, १, ३, २) ।

वइर देखो वेर = वैर (हे १, १५२) ।

वइर पुन [वज्र] १ रत्न-विशेष, हीरक, हीरा (सम ६३, श्रौप, कप्प, भग, कुमा) । २

इन्द्र का अस्त्र (पइ) । ३ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३, सम २५) । ४ नियत्, विजली (कुमा) । ५ पु एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि (कप्प, हे १, ६, कुमा) । ६ कोकिलाक्ष

वृक्ष । ७ श्वेत कुशा । ८ श्रीकृष्ण का एक प्रपौत्र । ९ न बालक, शिशु । १० भात्री ।

११ कर्जी । १२ वज्रपुष्प । १३ एक प्रकार का लोहा । १४ अन्न-विशेष । १५ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग (हे २, १०५) । १६

कीलिका, छोटी कील (सम १८६) । १७ ड न [काण्ड] रत्नप्रभा पृथिवी का एक

वज्ररत्न-मय काण्ड (राज) । १८ कत न [कान्त] एक देव-विमान (सम २५) ।

१९ कूट न [कूट] १ एक देव-विमान (सम २५) । २ देवी विशेष का आवासभूत एक

शिखर (राज) । २० जघ पु [जङ्घ] १ भरत-लेन मे उदान्त तृतीय प्रतिवासुदेव (सम १५६) । २ पुष्कलावती विजय के लोहागल

नगर का एक राजा (ध्या) । २१ पभ न [प्रभ] एक देव विमान (सम २५) ।

२२ मन्मा स्त्री [मध्या] प्रतिमा विशेष, एक प्रकार का व्रत (ठा ५, १—पत्र १६५) ।

२३ ह्य न [रूप] एक देव विमान (सम २५) । २४ लेस न [लेश्य] एक देव विमान (सम २५) । २५ वण न [वर्ण] देवविमान-विशेष (सम २५) । २६ सिग न [शृङ्ग] एक देव विमान का नाम (सम २५) । २७ सिह पु [सिंह] एक राजा (काल, वि ४००) ।

२८ सिट्ट न [सिट्ट] एक देव-विमान (सम २५) । २९ सीह देखो सिंह (काल) । ३० सेण पु [सेन] एक प्राचीन जैन महर्षि जो

वज्रस्वामी के शिष्य थे (कप्प) । ३१ सेणा स्त्री [सेना] १ एक इन्द्राणी, दक्षिणतय वानव्यन्तरेन्द्र की एक अन्न-महिषी (आया २—पत्र २५२) । २ एक विक्रुमारी देवी (इक) । ३ हर पु [धर] इन्द्र (षड्) ।

४ भय वि [भय] वज्र रत्नी का बना हुआ (सम ६३, श्रौप, पि ७०, १३५), स्त्री [मई, मती (जीव ३, पि २०३ टि ४) ।

५ वत्त, न [वत्त] एक देव-विमान (सम २५) । ६ सोसभनाराय न [ऋषभनाराच] सहनन-विशेष (सम १४६, भग) । देखो

ववज = वज्र ।

वइरा स्त्री [वज्रा] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

वइराग न [वैराग्य] विरक्ति, उदासीनता (पउम २६, २०) ।

वइराड पु [वैराट] १ एक आर्य देश । २ न प्राचीन भारतीय नगर-विशेष, जो मत्स्य देश की राजधानी थी, 'वइराड मच्छ वरुणा अच्छा' (पत्र २७५) ।

वइराय देखो वइराग (भवि) ।

वइरि } वि [वैरिन्] दुश्मन, रिधु (सुर वइरिअ } १, ७, काल, प्रासू १७४) ।

वइरिक्क न [दे] विजन, एकान्त स्थान, देखो पइरिक्क, 'अहिंसा सुएणाइ निरजणाइ वइरिक्कएणुसिमाइ' (गा ८७०) ।

वइरिक्क वि [ज्यतिरिक्क] भिन्न, अलग (सुर १२, ४४, चेइय ५६४) ।

वइरी स्त्री [वज्रा] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

वइरुट्टा स्त्री [वैरुट्ट्या] १ एक विद्या-देवी (सति ६) । २ भगवान् मल्लिनाथजी की शासन-देवी (सति १०) ।

वइरुत्तरवडिसग न [वज्रोत्तरायतसक] एक देव-विमान (सम २५) ।

वइरेअ } पु [ज्यतिरेक] १ अभाव (धम्मस वइरेग } ११२) । २ साध्य के अभाव मे हेतु का निवृत्त अभाव (धम्मस ३६२, उप ४१३, विसे २६०, २२०४) ।

वइरोअण पु [वैरोचन] १ अग्नि, वहि (सुध १, ६, ६) । २ बलि नामक इन्द्र (देवेन्द्र ३०७) । ३ उत्तर दिशा में रहनेवाले असुर-

निकाय के देव (भग ३, १, सम ७४) । ४ पुन एक लोकान्तिक देव-विमान (पव २६७, सम १४) ।

वइरोअण पु [दे] ब्रह्म देव (दे ७, ५१) ।

वइरोड पु [दे] जार, उपपति (दे ७, ४२) ।

वइवल्लय पु [दे] साँप की एक जाति, कुन्दुभ सर्प (दे ७, ५१) ।

वइवाय पु [ज्यतीपात] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग (राज) ।

वइवेला स्त्री [दे] सीमा (दे ७, ३१) ।

वइस देखो वइस्स = वैश्य, 'वाणिककरिसणाइगोरक्खणालणेमु उज्जुत्ता । ते होति वइसनामा वावापरयाणा कीरा' (पउम ३, ११६) ।

वइसइअ वि [वैषयिक्क] विषय से उत्पन्न, विषय-सम्बन्धी (सक्ति ५) ।

वइसपायण पु [वैशम्पायन] एक ऋषि, जो व्यास का शिष्य था (हे १, १५१, प्राप्र) ।

वइसम्म पुन [वैषम्म्य] विषमता, 'वइसम्मो' (सक्ति ५, पि ६१) ।

वइसवण पु [वैशवण] कुवेर (हे १, १५२, भवि) ।

वइसस न [वैशस] रोमाञ्चकारी पाप-कृत्य (उप ५७५) ।

वइसानर देखो वइसाणर (धम्म १२ टी) ।

वइसाल देखो [वैशाल] विशाला मे उत्पन्न (हे १, १५१) ।

वइसाह पु [वैशाख] १ मास-विशेष (सुर ४, १०१, भवि) । २ मन्थन-दण्ड । ३ पुन, मोटा का स्थान-विशेष (हे १, १५१, प्राप्र) ।

वइसाही देखो वेसाही (राज) ।

वइसिअ वि [वैशिक] वेप से जीविका उपार्जन करनेवाला (हे १, १५२, प्राप्र) ।

वइसिट्ट न [वैशिष्ट्य] विशिष्टता, भेद (धम्मस ६६) ।

वइसेसिअ न [वैशेषिक] १ दर्शन-विशेष, कणाद-दर्शन (विसे २५०७) । २ विशेष, 'जोएज्ज भावओ वा वइसेसियलक्खण चउहा' (विसे २१७८) ।

वइस्स पुब्बी [वैश्य] वर्ण-विशेष, वणिक्, महाजन (विपा १, ५) ।

लक्षण न [लख्खन] १ चिह्न, निशानी (पात्र) । २ नाम । ३ प्रकन, चिह्न करना (हे १, २५, ३०) ।

लंछणा वी [लख्खना] चिह्न करना (उप ५२२) ।

लच्छिअ वि [लख्खित] चिह्नित, कृत-चिह्न (पव १५४, याया १, २—पत्र ८६, ठा ३, १, कस, कप्प) ।

लंछुअ वि [दे लख्खित] उल्लिखित, 'चड्ढप-वादलहुमो विअ वरडो पव्वदादो दूर आरो-विअ पाडिदो म्हि' (चास ३) ।

लतक पु [लान्तक] १ एक देवलोक, लतग छठवाँ देवलोक (भग, भ्रौप, अत, लतय इक) । २ एक देवविमान (सम २७, देवेन्द्र १३४) । ३ षष्ठ देवलोक के निवासी देव । ४ षष्ठ देवलोक का इन्द्र (राज, ठा २, ३—पत्र ८२) ।

लंद पुंन [लान्द] काल, समय (कप्प, पव) ७०) ।

लदय पुन [दे] कलिन्दक, गो आदि का खादन-पात्र (पव २) ।

लपड वि [लम्पट] लोलुप, लालची, लुब्ध (पात्र, सुपा १०७, ५६६, सुर ३, १०) ।

लपाग पुं [लम्पाक] देश विशेष (पउम ६८, ५६) ।

लंपिकख पु [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १६) ।

लव सक [लम्ब] १ सहारा लेना, आलम्बन करना । २ अक लटकना । लवेइ (महा) । वड लवत, लवमाण (भ्रौप, सुर ३, ७१, ४, २४२, कप्प, वसु) । सड लविऊण (महा) ।

लव वि [लम्ब] लम्बा, दीर्घ, 'उट्टा उट्टुस्स जेव लवा' (उवा, याया १, ८—पत्र १३३) ।

लव पुं [दे] गोवाट, गो बाडा (दे ७, २६) ।

लवअ न [लम्बक] ललन्तिक, नाभि-पर्यन्त लटकती माला आदि (स्वप्न ६३) ।

लवणा वी [लम्बना] रञ्जु, रस्ती (स १०१) ।

लंबा वी [दे] १ वल्लरी, लता (षड्) । २ केश, बाल (पड्, दे ७, २६) ।

लवाली वी [दे] पुष्प-विशेष (दे ७, १६) ।

लवि वि [लम्बन्] लटकता (गड) ।

लविअ } वि [लम्बित] १ लटकता हुआ लविअय } (गा ५३२, सुर ३, ७०) । २ पुं वानप्रस्थ का एक भेद (भ्रौप) ।

लविर वि [लम्बित] लटकनेवाला (कुमा, गड) ।

लवुअ वि [लम्बु] १ लम्बी लकड़ी के अन्त भाग में बंधा हुआ मिट्टी का डेला । २ भीत में लगा हुआ ईंटों का समूह (मुच्छ ६) ।

लवुत्तर पुन [लम्बोत्तर] कायोत्सर्ग का एक दोष, चोलपट्टे को नाभि मडल से ऊपर रख-कर और जानु को चोलपट्टे से नीचे रख कर कायोत्सर्ग करना (वेद्य ४८४) ।

लवूस पुन [दे लम्बूप] कन्दुक के आकार का एक आभरण, 'छत्त चमर-पडाया दम्पण-लवूसया वियाणं व' (पउम ३२, ७६, ६६, १२) ।

लवोदर } वि [लम्बोदर] १ बडा पेटवाला लवोदर } (सुख १, १४, उवा) । २ पुं गणपति, गणेश (आ १२, कुप्र ६७) ।

लभ सक [लम्] प्राप्त करना, 'अज्जेवाह न लभामि अवि लामो सुए सिया' (उत्त २, ३१) । भवि लमित्स (पि ५२५) । कर्म लंभीअदि, लभीआमो (शौ) (पि ५४१) । सड लंभिअ, लंभिन्ता (मा १६, नाट—चैत ६१, ठा ३, २) ।

लभ सक [लम्भय] प्राप्त करना । सड लंभिअ (नाट—चैत ४४) । कड लभइदव्व (शौ), लभणिज्ज, लभणीअ (मा ५१, नाट—मालती ३६, चैत १२५) ।

लभ पु [लभ] प्राप्त (पउम १००, ४३, से ११, ३१, गड, सिरि ८२२, सुपा ३६४) । देलो लाह = लाभ ।

लभण पुं [लम्भन] मत्स्य की एक जाति (विपा १, ८ टी—पत्र ८४) ।

लंभिअ देलो लभ = लभ, लम्भय ।

लंभिअ वि [लम्भ] प्राप्त (नाट—चैत १२५) ।

लंभिअ वि [लम्भित] प्राप्त करायी हुआ, प्रापित (सूअ २, ७, ३७, स ३१०, अचु ७१) ।

लवकुड न [दे लकुट] लकड़ी, गट्टि, छडी, ताडी (दे ७, १६, पात्र) ।

लवख सक [लक्ष्य] १ जानना । २ पहचानना । ३ देखना । लवखइ (महा) । कर्म लक्खिअए, लक्खीयसि (विसे २१४६, महा, काल) । कवक लक्खिअज्जत (से ११, ४५) । कड लक्खणीअ (नाट—शकु २४), देलो लक्ख = लक्ष्य ।

लक्ख पुन [दे] काय, शरीर, देह (दे ७, १७) ।

लक्ख पुन [लक्ष] सख्या-विशेष, लाख, सौ हजार (जी ४५, सुपा १०३, २४८, कुमा, प्रासू ६६) । पाग पु [पाक] लाख रूपों के व्यय से बनता एक तरह का पाक (ठा ६) ।

लक्ख वि [लक्ष्य] १ पहचानने योग्य, 'चिर-लक्खणो' (पउम ८२, ८४) । २ जिससे जाना जाय वह, लक्षणा, प्रकाशक, 'अमदम्पवी-अलक्खं चाव' (से ५, १७) । ३ वेद्य, निशाना, 'लक्खविषया—' (धर्मवि ५२, दे २, २६, कुमा) ।

लक्खं देलो लक्खा (पडि) ।

लक्खग वि [लक्षक] पहचाननेवाला (पउम ८२, ८४, कुप्र ३००) ।

लक्खण पुन [लक्षण] १ इतर से भेद का बोधक चिह्न । २ वस्तु-स्वरूप (ठा ३, ३, ४, १, जी ११, विसे २१४६, २१४७, २१४८) । ३ चिह्न, लक्खणुएण (कुमा) ।

४ व्याकरण-शास्त्र, 'लक्खणुआहितपमाण-जोइहाईणि सा पडइ' (सुपा १४१, ६५७) । ५ व्याकरण आदि का सूत्र । ६ प्रतिपाद्य, विषय (हे २, ३) । ७ पु लक्षणा । ८ सारस पक्षी, 'लक्खणो' (प्राक २२) ।

९ सवच्छर पु [संवत्सर] वर्ष-विशेष (सुख १०, २०) ।

लक्खण पु [लक्ष्मण] श्रीराम का छोटा भाई (से १, ४८) । देलो लक्खमण ।

लक्खण न [लक्षण] कारण, हेतु (दसि १, १४) ।

लक्खणा वी [लक्षणा] १ शब्द-वृत्ति विशेष, शब्द की एक शक्ति, जिससे मुख्य अर्थ के वाच होने पर भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है (दे १, ३) । २ एक महोपनि (ती ५) ।

लक्खणा वी [लक्ष्मणा] १ आठवें जिनदेव की माता (नम १५१) । २ उसी जन्म मे मुक्ति

वजुलि वि [वञ्जुलिन्] वैतस वृक्षवाला ।
 स्त्री °गी (गउड) ।
 वम्भ वि [वन्ध्य] शून्य, वर्जित (कुमा) ।
 वम्भा स्त्री [वन्ध्या] बाँझ स्त्री, अपुत्रवती स्त्री
 (पउम २६, ८३, सुपा ३२४) ।
 वंठ न [वृन्त] फल या पत्तो का वन्धन (पिंड
 ४५) ।
 वटग पु [वण्टक] बाँट, विभाग (निचू १६) ।
 वठ पु [दे] १ अकृत-विवाह, अविवाहित,
 गुजराती में 'वाढो' (दे ७, ८३, श्लो २१८) ।
 २ खण्ड, टुकड़ा । ३ गण्ड (दे ७, ८३) ।
 ४ भृत्य, दास (दे ७, ८३, सुर २, १६८,
 रयण ८३, सिरि १११५) । ५ वि नि स्नेह,
 स्नेह-रहित (दे ७, ८३) । ६ घूर्त्त, ठग
 (श्रा १२) ।
 वंठ वि [वण्ठ] खर्व, वामन, नाटा, वीना
 (हे ४, ४४७) ।
 वठण (अप) न [वण्टन] बाँटना, विभाजन
 (पिंग) ।
 वडइअ वि [दे] पीडित (पड्) ।
 °वडु देखो पडु (गा २६५) ।
 वडुअ न [दे] राज्य (दे ७, ३६) ।
 °वडुर देखो पडुर (गा ३७४) ।
 वड पु [दे] वन्ध (दे ७, २६) ।
 वत वि [वान्त] पतित, गिरा हुआ (दस ३,
 १ टी) ।
 वत पु [वान्त] १ जिसका वमन किया गया
 हो वह (उव) । २ पुन वमन, 'वते इ वा
 पित्ते इ वा' (मग) ।
 वतर पु [व्यन्तर] एक देव-जाति (द २७,
 महा) ।
 वंतरिअ पु [व्यन्तरिक्] ऊपर देखो (मग) ।
 वतरिणी स्त्री [व्यन्तरी] व्यन्तर-जातीय देवी
 (सुपा ६१३) ।
 वता देखो वम ।
 °वति दनो पन्नि (गा २७८, ४६३) ।
 °वय देनो पन्थ (मे १, १६, ३, ८२, १३,
 २०, पि १०३) ।
 वद नरु [वन्द] १ प्रणाम करना । २
 स्तवन करना । वदइ (उप, महा, कप्प) ।

वक्क वन्दमाण (श्लो १८, स १०, अमि
 १७२) । कवक्क वन्दिजमाण (उप ६८६
 टी, प्रासू १६५) । सक वन्दिअ, वन्दिओ,
 वन्दिऊण, वन्दित्ता, वन्दिन्तु, वदेवि
 (कम्म १, १, चड, कप्प, षड्, हे ३, १४६,
 चड) । हेक्क, वदित्तए (उवा) । कृ वज,
 वंद, वंदणिज्ज, वदणीअ, वदिम (राज,
 अजि १४, द्रव्य १, णाया १, १, प्रासू १६२,
 नाट—मृच्छ १३०, वसन्न १) ।
 वद न [वृन्द] समूह, युथ (पउम १, १,
 श्रौप, प्राप्र) ।
 वदअ } वि [वन्दक] वन्दन करनेवाला
 वदग } (पउम ६, ५८, १०१, ७३, महा,
 श्रौप, सुख १, ३) ।
 वदण न [वन्दन] १ प्रणामन, प्रणाम । २
 स्तवन, स्तुति (कप्प, सुर ४, ६२, उव) ।
 °कलस पु [कलश] मांगलिक घट (श्रौप) ।
 °घड पु [घट] वही अर्थ (श्रौप) । °माला,
 °मालिआ स्त्री [°माला] घर के द्वार पर
 मंगल के लिए बँधी जाती पत्र-माला (सुपा
 ५४, सुर १०, ४, गा २६२) । °वडिआ,
 °वन्तिआ स्त्री [°प्रत्यय] वन्दन-हेतु (सुपा
 ४३२, पडि) ।
 वदणा स्त्री [वन्दना] १ प्रणाम । २ स्तवन
 (पचा ३, २, परह २, १—पत्र १००,
 अत) ।
 वदणिया स्त्री [दे] मोरी, नाला, पनाला,
 'अथि कवलो, गरियाए नेमि । मुक्को । तत्रो
 तीसे दिन्नो । तीए च (? व) दणियाए छूढो'
 (सुख २, १७) ।
 वदर देखो वद = वन्द (प्राप्र) ।
 वदाप (अशो) देखो वदान । वदापयति (पि
 ७) ।
 वदारय पु [वृन्दारक] १ देव, देवता
 (पाम्र, कुमा) । २ वि मनोहर (कुमा) ।
 ३ मुख्य, प्रधान (हे १, १३२) ।
 वदारु वि [वन्दारु] वन्दन करनेवाला (चेइय
 ६२१, लहुर) ।
 वदाव सक [वन्दय्] वन्दन करवाना ।
 वदावइ (उव) ।
 वदावणन न [वन्दन] वन्दन, प्रणाम (श्रावक
 ३७४) ।

वदिअ देखो वद = वन्द ।
 वदिअ वि [वन्दित] जिसको वन्दन किया
 गया हो वह (कप्प, उव) ।
 वदिम देखो वद = वन्द ।
 वदुरा स्त्री [मन्दुरा] वाजिशाला, घुडसाल,
 अस्तबल ।
 वंद्र न [वन्द्र] समूह, युथ (हे १, ५३, २,
 ७६, पउम ११, १२०, स ६६६) ।
 वध पुं [वन्ध्य] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-
 विशेष (सुज्ज २०) ।
 वफ सक [काइक्ष्] चाहना अभिलाष
 करना । वफइ, वफए, वफति (हे ४, १६२,
 कुमा) ।
 वफ अक [वल्] लौटना । वफइ (हे ४,
 १७६, षड्) ।
 वफि वि [वलिन्] १ लौटनेवाला । २ नीचे
 गिरनेवाला (कुमा) ।
 वफिअ वि [काइक्षित] अभिलषित (कुमा) ।
 वफिअ वि [दे] भुक्त, खाया हुआ (दे ७,
 ३५, पाम्र) ।
 वस पु [दे] कलक, दाग (दे ७, ३०) ।
 वस पु [वश] १ बाँस, वेगु (परह २, ५—
 पत्र १४६, पाम्र) । २ वाद्य-विशेष, 'वाइओ
 वसो' (कुमा २, ७०, राय) । ३ कुल,
 'बुलुगवसदीवओ' (कुमा २, ६१) । ४ सन्तान,
 सत्ति । ५ पृष्ठावयव, पीठ का भाग । ६
 वर्ग । ७ इक्षु, ऊल । ८ वृक्ष-विशेष, सालवृक्ष
 (हे १, २६०) । °इरि पु [गिरि] पर्वत-
 विशेष (पउम ३६, ४) । °करिइ, °गरिइ
 पुन [करील] वशाकुर, बाँस का कोमल
 नवावयव (श्रा २०, पव ४) । °जाली,
 °याली स्त्री [जाली] बाँसो का गहन घटा
 (सुर १२, २००, उप पृ ३६) । °रोअणा
 स्त्री [रोचना] वशलोचन (कप्प) ।
 वसकवेल्लुय पुन [दे. वशकवेल्लुक] छत
 के नीचे दोनों तरफ तिरछा रखा जाता बाँस
 (जीव ३, राय) ।
 वसग देखो वसय (राज) ।
 वसफाल वि [दे] १ प्रकट, व्यक्त । २ ऋजु,
 सरल (दे ७, ४८) ।
 वसय वि [व्यसक] १ घूर्त्त, ठग । २ पु-
 दुए हेतु-विशेष (ठा ४, ३—पत्र २५४) ।

लज्जु वि [लज्जावत्] लज्जावाला, 'एसणा-समिथो लज्जु गामे अनिययो चरे' (उत्त ६, १७)।

लज्जु देखो रिज्जु = ऋजु (भग)।

लज्जु देखो लभ।

लट्ट } न [दे] १ खसखस आदि का तेल
लट्टय } (पभा ३१)। २ कुसुम्भ, 'लट्टयव-सणा' (दे ७, १७)।

लट्टा बी [दे लट्टा] धान्य विशेष, कुसुम्भ धान्य (पव १५४)।

लट्टा बी [लट्टा] १ वृक्ष-विशेष (कुमा)। २ कुसुम्भ (बृह १)। ३ गौरैया, पक्षि-विशेष। ४ भ्रमर, भोंरा। ५ वाद्य विशेष (दे २, ५५)।

लट्ट वि [दे] १ अन्यासक्त (दे ७, २६)। २ मनोहर, सुन्दर, रम्य (दे ७, २६, पात्र, णायया १, १, परह १, ४, सुर १, २६, कुप्र ११, श्रु ६, पुष्क ३४, सार्ध २१, वण ५, सुपा १५६)। ३ प्रियवद, प्रिय-भाषी (दे ७, २६)। ४ प्रधान, मुख्य, 'लमियञ्जो भवराहो ममावि पाविट्टलट्टस्स' (उप ७२८ टी)। ५ दंत पु [दन्त] १ जैन मुनि (अनु १)। २ द्वीप-विशेष, एक अन्तर्द्वीप। ३ द्वीप-विशेष मे रहनेवाला मनुष्य (ठा ४, २—पत्र २२६, इक)।

लट्टरी बी [दे] सुन्दर, रमणीय (कुप्र २१०)। लट्टि बी [यष्टि] लाठी, छडी (श्रौप, कुमा)। लट्टिअ न [दे] लाद्य-विशेष, 'जेट्टहि लट्टिएण भोचा कज्ज सार्हिति' (सुज्ज १०, १७)।

लडह वि [दे] १ रम्य, सुन्दर (७, १७, सुपा ६, सिरि ४७, ८७५, गउड, श्रौप, कप्प, कुमा, हेका २६५, सण, भवि)। २ सुकुमार, कोमल (काप्र ७६५, भवि)। ३ विदग्ध, चतुर (दे ७, १७)। ४ प्रधान, मुख्य (कुमा)। लडहक्खमिअ वि [दे] विघटित, वियुक्त (दे ७, २०)।

लडहा बी [दे] विलासवती बी (पड)। लडाल देखो णडाल (प्राकृ ३७, पि २६०)। लडिय न [दे] लाड, छोह, प्यार (भवि)। लड्डुअ } पु [लड्डु] लड्डू, मोदक
लड्डुग } (गा ६४१, प्रथी ८३, कुप्र २०६, भवि, पउम ८४, ४, पिड ३७७)।

लड्डुयार वि [लड्डु डककार] लड्डू बनाने-वाला, हलवाई (कुप्र २०६)।

लड्ड सक [स्मृ] स्मरण करना, याद करना। लड्ड (हे ४, ७४)। वकू लड्डत (कुमा)।

लड्डिअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (पात्र)। लणह वि [इलक्षण] १ चिकना, मसूण (सम १३७, ठा ४, २, श्रौप, कप्प)। २ अल्प, थोडा। ३ न लोहा, धातु-विशेष (हे २, ७७, प्राकृ १८)।

लत्त वि [लत्त, लपित] उक्त, कथित (सुपा २३४)।

लत्ता } बी [दे] १ लात, पाण्डि-प्रहार
लत्तिआ } (सुपा २३८, ठा २, ३—पत्र ६३)। २ आतोद्य-विशेष (ठा २, ३, आचा २, ११, ३)।

लट्टण } (मा) देखो रयण = रत्न (अभि लट्टन } १८४, प्राकृ १०२)।

लह सक [दे] भार भरना, बोझ डालना, लादना, गुजराती मे 'लादवु'। हेकू लहेड (सुपा २७५)।

लहण न [दे] भार-क्षेप लादना (स ५३७)। लही बी [दे] हाथी आदि की विष्टा, गुजराती मे 'लीद' (सुपा १३७)।

लड्ड वि [लड्ड] प्राप्त (भग, उवा, श्रौप, हे ३, २३)।

लड्डि बी [लड्डि] १ क्षयोपशम, ज्ञान आदि के आवारक कर्मों का विनाश और उपशान्ति (विसे २६६७)। २ सामर्थ्य-विशेष, योग आदि से प्राप्त होती विशिष्ट शक्ति (पव २७०, सवोध २८)। ३ अहिंसा (परह २, १—पत्र ६६)। ४ प्राप्ति, लाभ (भग ८, २)। ५ इन्द्रिय और मन से होनेवाला विज्ञान, श्रुत ज्ञान का उपयोग (विसे ४६६)। ६ योग्यता (अणु)। ७ पुलाअ पु [पुलाक] लब्धि-विशेष सपन्न मुनि, 'सचाइयाण कज्जे चुरिएणज्जा चक्खवट्टिमवि जीए। तीए लड्डी ज्जुओ लड्डिपुलाओ' (सवोध २८)।

लड्डिअ वि [लड्ड] प्राप्त (वै ६६)।

लड्डिअ वि [लड्डिमत्] लब्धि-युक्त (पत्र १, ७)।

लड्डु } देखो लभ।
लड्डूण }

लपसिया बी [दे] लपसी, एक प्रकार का पक्वान्न (पव ४)।

लभ नीचे देखो।

लभ सक [लभ] प्राप्त करना। लभइ, लभए (आचा, कस, विसे १२१५)। भवि, लच्छिसि, लभिस, लभिससामि (उव, महा, पि ५२५)। कर्म लज्जइ, लभइ (महा ६०, १६, हे १, १८७, ४, २४६, कुमा)। सकू लभिय, लड्डु, लड्डूण (पव ५, १६४, आचा, काल)। हेकू लड्डु (काल)। कू लभ (परह २, १, विसे २८३७, सुपा ११, २३३, स १७५, सण)।

लय सक [ला] ग्रहण करना। लएइ, लयति (उव)। कर्म—लइज्जइ, लिज्जइ (भवि, सिरि ६६३)। वकू लयत (वज्जा २८, महा, सिरि ३७५)। सकू लइ, लणवि, लएविणु (अप) (पिंग, भवि)। देखो ले = ला।

लय न [दे] नव-दम्पति का आपस में नाम लेने का उत्सव (दे ७, १६)।

लय देखो लय = लव (गउड, से ५, १४)।

लय पु [लय] १ श्लेष। २ मन की साम्या-वस्था (कुमा)। ३ लीनता, तल्लीनता। ४ तिरोभाव (विसे २६६६)। ५ सगीत का एक अंग, स्वर-विशेष (स ७०४, हास्य १२३)।

लय देखो लया। १ हरय न [गृहक] लता-गृह (सुपा ३८१)।

लय पु [लय] तन्वी का स्वन—ध्वनि-विशेष। २ सम न [सम] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २, २३)।

लयग न [लताङ्ग] सख्या-विशेष, चौपसी लाब पूर्व, 'पुव्वाण सयतहस्स चुलसीइयण लयगमिह होइ' (जो २)।

लयण वि [दे] १ तनु, कृश, क्षाम (दे ७, २७, पात्र)। २ मृदु, कोमल। ३ न वल्ली, लता (दे ७, २७)।

लयण न [लयन] १ तिरोभाव, छिपना (विसे २८१७, दे ७, २४)। २ भवत्यान (सुर ३, २०६)। ३ देखो लेण (राज)।

लयणी बी [दे] लता, वल्ली (पात्र, पड)।

वर्ग पुं [वर्ग] १ सजातीय समूह (एदि, सुर ३, ४, कुमा) । २ गणित विशेष, दो समान संख्या का परस्पर गुणन (ठा १०—पत्र ४९६) । ३ ग्रन्थ-परिच्छेद, अध्ययन, सर्ग (हे १, १७७, २, ७६) । °मूल न [°मूल] गणित-विशेष, वह अंक जिसका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ होता है, १६ का वर्गमूल ४ होता है (जोवस १५७) । °वर्ग पु [°वर्ग] गणित-विशेष, वर्ग से वर्ग का गुणन, जैसे २ का वर्ग ४, ४का वर्ग १६, यह २ का वर्गवर्ग कहलाता है (ठा १०) ।

वर्ग सक [वर्ग्य] वर्ग करना, किसी अंक को समान अंक से गुणना । वर्गसु (कम्म ४, ८४) ।

वर्ग वि [व्यग्र] व्याकुल (उत्त १५, ४, रयण ८०) ।

वर्ग देखो वक्क = वल्क (विसे १५४) ।

वर्ग देखो वक्क = वाक्य, 'युद्धा भणति अहल बहु वर्गजाल' (रभा) ।

वर्ग वि [वारु] वृक्ष त्वचा—छाल का बना हुआ (याया १, १ टी—पत्र ४३) ।

वर्गसिअ न [दे] युद्ध, लडाईं (दे ७, ४६) ।

वर्गचूलिआ छी [वर्गचूलिका] एक प्राचीन जैन ग्रन्थ (एदि २०२) ।

वर्गण न [वर्गण] कूदना (ओप, कुप्र १०७, कप्प, याया १, १—पत्र १६, प्राप) ।

वर्गण न [वर्गण] वक्रवाद (रभा) ।

वर्गणा छी [वर्णा] सजातीय समूह (ठा १—पत्र २७) ।

वर्गय न [दे] वार्ता, बात (दे ७, ३८) ।

वर्गा छी [वर्गा] लगाम (उप ७६८ टी) ।

वर्गावर्गि अ वर्ग रूप से (ओप) ।

वर्गि वि [वर्गिन्] १ प्रशस्त वाक्य बोलनेवाला । २ पु. बहुस्पति (प्राप्र, पि २७७) ।

वर्गिअ वि [वर्गिन्] वर्ग किया हुआ (कम्म ४, ८०) ।

वर्गिअ न [वर्गित] १ बहु भाषण, वक्रवाद (सम्मत्त २२७) । २ बडाई की आवाज (माह ८७) । ३ गति, चाल (सण) ।

वर्गिअ वि [वर्गित] १ खूंखार आवाज करनेवाला । २ गति-विशेषवाला (सुर ११, १७१) ।

वर्गु देखो वाया = वाच्, 'वर्गुहि' (ओप, कप्प, सम ५०, कुम्मा १६) ।

वर्गु देखो वर्ग = वर्ग, 'वर्गुहि' (ओप) ।

वर्गु वि [वर्गु] १ सुन्दर, शोभन (सूत्र १, ४, २, ४) । २ कल, मधुर (पात्र) । ३ पु विजय क्षेत्र विशेष, प्रान्त विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । ४ पुन. एक देव-विमान, वैश्रमण लोकपाल का विमान (देवेन्द्र १३१, २७०) ।

वर्गुरा न [वागुरा] १ मृग-बन्धन, पशु फँसाने का जाल, फन्दा (परह १, १, विपा १, २—पत्र ३५) । २ समूह, समुदाय, 'मणुस्सवग्गुरापरिक्खित्ते' (उवा, प्राप) ।

वर्गुरिय वि [वागुरिक] १ मृग-जाल से जीविका निर्वाह करनेवाला, व्याध, पारधि (ओष ७६६) । २ पुं नर्तक-विशेष (राज) ।

वर्गुलि पुंछी [वर्गुलि] १ पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८) । २ रोग-विशेष (ओषभा २७७, श्रावक ६१ टी) ।

वर्गोज्ज वि [दे] प्रचुर, प्रभूत (दे ७, ३८) ।

वर्गोअ पु [दे] नकुल न्यौला (दे ७, ४०) ।

वर्गोरमय वि [दे] लक्ष, लूखा (दे ७, ५२) ।

वर्गोल सक [रोमन्थय] पगुराना, चबी हुई वस्तु का पुन चवाना, गुजराती में 'वागोळु' । वर्गोलइ (हे ४, ४३) ।

वर्गोलिअ वि [रोमन्थयित्] पगुरानेवाला (कुमा) ।

वर्ग वि [वैयात्र] व्यात्र-चर्म का बना हुआ (आचा २, ५, १, ५) ।

वर्ग पु [व्यात्र] १ वाघ, शेर (पात्र, स्वप्न ७०, सुपा ४६३) । २ रक्त एरएड का पेड । ३ करअ वृक्ष (हे २, ६०) । °मुह पु [°मुह] १ एक अन्तर्दोष । २ उसमें रहने-वाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६, इक) ।

वर्गाअ पु [दे] १ साहाय्य, मदद । २ वि. विकसित, खिला हुआ (दे ७, ८६) ।

वर्गाडी छी [दे] उहास के लिये की

जाती एक प्रकार की आवाज, 'अप्पेगइयां वर्गाडीओ करेति' (याया १, ८—पत्र १४४) ।

वर्गारिअ वि [व्याघारित] १ ववारा हुआ, झौंका हुआ (नाट—मृच्छ २२१) । २ व्याप्त; 'सीतोदयवियडवर्गारियपाणिया' (मम ३६) । ३ पिघला हुआ (दश० वै० वृ० चू० अ० ३ नि० गा० १६७) ।

वर्गारिअ वि [दे] प्रलम्बित, 'पडिवद्धमरीर-वर्गारियसोणिसुत्तगमल्लवामकलावे' (सूत्र २, २, ५५), 'वर्गारियपाणी' (याया १, ८—पत्र १५४, कप्प, ओप, महा) ।

वर्गावच्च न [व्याघ्रापत्य] एक गोत्र, जो वाशिष्ठ गोत्र की एक शाखा है (ठा ७—पत्र ३६०, सुज १०, १६, कप्प; इक) ।

वर्गी छी [व्याघ्री] १ बाघ की मादा (कुमा) । २ एक विद्या (विसे २४५४) ।

वर्गाय देखो वाघाय, 'आउस्स कालाइचरं वघाए, लद्धाएणुमारो य परस्स अट्टे' (सूत्र १, १३, २०) ।

वर्गा छी [वर्गा] १ पृथिवी, धरती (से २, ११) । २ ओषधि-विशेष, वच (मृच्छ १७०) । देखो वया = वचा ।

वच्च सक [व्रज्] जाना, गमन करना । वच्चइ (हे ४, २२५, महा) । भवि वच्चि-हिसि (महा) । वक्क वच्चत, वच्चमाण (सुर २, ७२, महा, गा १६) ।

वच्च सक [काड्क्ष] चाहना, अभिलाष करना । वच्चइ, वच्चउ (हे ४, १६२, कुमा) । वच्च देखो वय = वच् ।

वच्च पुन [वर्चस्] १ पुरीष, विष्ठा (पात्र-ओष १६७, सुपा १७६, तदु १४) । २ कूडा-करकट, 'भोगी तवोलाइ कुणतो जियण-गिहे कुणइ वच्च' (गेव ४) । ३ चौथा नरक का चौथा नरकेन्द्र — नरकस्थान-विशेष (देवेन्द्र १०) । ४ त-भाव (याया १, १—पत्र ६) । °वर २२ न [°गृह] पाखाना, टहनी (सुग ४, २, १३, स ७ १) ।

वच्च देगे वर्ग = वर्ग (याया १, १—पत्र २) ।

लहग पु [दे] वासी ग्रन्थ मे पैदा होनेवाला द्वीन्द्रिय कोट-विशेष (जी १५)।

लहण न [लभन] १ लाभ, प्राप्ति । २ ग्रहण, स्वीकार (आ १४)।

लहर पुं [लहर] एक वणिक्-पुत्र (सुपा ६१७)।

लहरि } श्री [लहरि, 'री] तरंग, कल्लोल
लहरी } (सण; प्राप् ६६, कुमा)।

लहाधिअ वि [लम्भित] प्राप्त, प्राप्त कराय
हुआ (कुप्र २३२)।

लहिअ देखो लद्ध (कम्प, पिग)।

लहिम देखो लघिम (बड)।

लहु } वि [लघु] १ छोटा, जघन्य (कुमा,
लहुअ } सुपा ३६०, कम्म ४, ७२, महा)।

२ हलका (से ७, ४४, पात्र)। ३ तुच्छ,
नि सार (पह १, २—पत्र २८, पह २,
२—पत्र ११६)। ४ श्लाघनीय, प्रशंसनीय
(से १२, ५३)। ५ शोभा, अल्प (सुपा
३५४)। ६ मनोहर, सुन्दर (हे २, १२२)।

श्री 'ई', 'वी' (बड, प्राक २८, गउड, हे
२, ११३)। ७ न. कृष्णाणुष, सुगन्धि वृष-
द्रव्य विशेष। ८ वीरण-मूल (हे २, १२२)।

९ शोध, जल्दी (द्र ४६, पह २, २—पत्र
११६)। १० स्पर्श-विशेष (अणु)। ११
लघुस्पर्श नामक एक कर्मभेद (कम्म १, ४१)।

१२ पुं एक मात्रावाला अक्षर (हे ३, १३४)।
'कम्म वि [°कर्मन्] जिसके अल्प ही कर्म
अवशिष्ट रहे हो, शीघ्र मुक्ति-प्राप्ती (सुपा
३५४)। 'करण न [°करण] दक्षता,
चातुरी (आया १, ३—पत्र ६२, जवा)।

'परकम्म पु [°पराकम्म] ईशानेन्द्र का एक
पदाति-सेनापति (ठा ५, १—पत्र ३०३,
इक)। 'सखिज्ज न [°सख्येय] सख्या-
विशेष, जघन्य सख्यात (कम्म ४, ७२)।

लहुअ सक [लघय्, लघु + कृ] लघु करना,
छोटा करना। लहुअति, लहुअसि (आ २०,
गा ३५५)। वङ्ग लहुअत (से १५, २७)।

लहुअवह पुं [दे] न्यग्रोध वृक्ष, बरगद का पेड़
(दे ७, २०)।

लहुआइअ } वि [लघुकृत] लघु किया
लहुअ } हुआ (से ६, ४, १२, ५४, स
२०७, गउड)।

लहुई देखो लहु।
लहुग देखो लहु (कम्प, द्र ५८)।
लहुवी देखो लहु।
लाइअ वि [लागित] लगाया हुआ (से २,
२६, वजा ५०)।
लाइअ वि [दे] १ गृहीत, स्वीकृत (दे ७,
२७)। २ छुट (से २, २६)। ३ न भूषा-
मण्डन (दे ७, २७)। ४ भूमि को गोबर
प्रादि से लीपना (सम १३७, कम्प, श्रौप,
आया १, १ टी—पत्र ३)। ५ चर्माधि,
आवा चमड़ा (दे ७, २७)।
लाइअव्व देखो लाय = लावय्।
लाइज्जत देखो लाय = लागय्।
लाइम वि [लज्ज] काटने योग्य (दस ७,
३४)।
लाइम वि [दे] १ लाजा के योग्य, खोई के
योग्य। २ रोपण के योग्य, बोने लायक
(आचा २, ४, २, १५)।
लाइल पु [दे] वृषभ, बैल (दे ७, १६)।
लाउ देखो अलाउ (हे १, ६६, भग, कस,
श्रौप)।
लाउलोइय न [दे] गोमय आदि से भूमि का
लेपन और खडी आदि से भीत आदि का
पोतना (राय ३५)।
लाऊ देखो अलाऊ (हे १, ६६, कुमा)।
लाख (अप) देखो लखल = लस (पिग)।
लाग पु [दे] जुगो, एक प्रकार का सरकारी
कर, लगान, गुजराती मे 'लागो' (तिरि ४३३,
४३४)।
लाघव न [लाघव] लघुता, छोटाई, लघुपन
(भग, कम्प, मुपा १०३, कुप्र २७७, किरात
१६)।
लाघवि वि [लाघविन्] लघुता-युक्त, लाघव-
वाला (उत्त २६, ४२, आचा)।
लाघविअ न [लाघविक] लघुता, छोटापन,
लाघव (ठा ५, ३—पत्र ३४२, विसे ७ टी,
सुप्र २, १, ५७, भग)।
लाज देखो लाय = लाज (दे ५, १०)।
लाड पु [लाट] देश विशेष (सुपा ६५८, कुप्र
२५४, सत्त ६७ टी, सकि सण, इक)।
लाडी श्री [लाटी] लिपि-विशेष (विसे ४६४
टी)।

लाड पुं [लाड] देश-विशेष, एक आर्य देश
(आचा; पव २७५, विचार ४६)।
लाड वि [दे] १ निर्दोष आहार से आत्मा
का निवर्हि करनेवाला, सयमी, भ्रातृ निग्रही
(सूप्र १, १०, ३, सुप्र २, १८)। २ प्रधान,
मुख्य (सत्त १५, २)। ३ पु एक कैत
आचार्य (राज)।
लाड वि [दे] श्रेष्ठ, उत्तम (आचा २, ३, १,
५)।
लाण न [लान] ग्रहण, आदान (से ७, ६०)।
लावू देखो लाऊ (पड)।
लाभ पु [लाभ] १ नफा, फायदा (उव, सुव
८, १३)। २ प्राप्ति (ठा ३, ४)। ३ सुव,
व्याज (उप ६५७)।
लाभतराइय न [लाभान्तरायिक] लाभ का
प्रतिबन्धक कर्म (वमस ६४८)।
लाभिय } वि [लाभिक] लाभ-युक्त, लाभ
लाभिल } वाला (श्रौप, कर्म १७)।
लाभ वि [दे] रम्य, सुन्दर (श्रौप)।
लाभजय न [दे] वृष्ण-विशेष, उशीर वृष्ण,
लस—गाँडर घास की जड़ (पात्र)।
लामा श्री [दे] बालिको, बालन (दे ७, २१)।
लाय सक [लायय्] लगाना, जोड़ना।
लाएसि (विसे ४२३)। वङ्ग लायत (अदि)।
कनक लाइज्जत (से १३, १३)। सङ्ग.
लाइवि (अप) (हे ४, ३३१, ३७८)।
लाय सक [लायय्] १ कटवाना। २ काटना,
छेदना। ३ लाइअव्व (से १५, ७५)।
लाय देखो लाइअ = (दे), 'लावलोइय'
(श्रौप)।
लाय वि [लात] १ श्रात, स्वीकृत, गृहीत।
२ न्यस्त, स्थापित (श्रौप)। ३ न. लगन का
एक दोष, 'नायाइवीसपुक्क नरवर अइवोहण
लग' (सुपा १०८)।
लाय पुत्री [लाज] १ आद्र' तण्डुल। २ ब.
अष्ट धान्य, बुँजा हुआ नाक, खोई (कम्प)।
लायण न [लागन्] लगाना (गा ४५८)।
लायण न [लायण्य] १ शरीर-सौन्दर्य विशेष,
शरीरकान्ति (पात्र, कुपा; सण, पि १८६)।
२ सवणत्व, क्षारत्व (हे १, १७७, १८०)।
लाल सक [लालय्] स्नेह-पूर्वक पालन
करना। लालति (सु ५०)। कनक.
लालिज्जत (सुर २, ७३, सुपा २४)।

वशीय राजा (पउम ५, १५) । °घर देखो °हर (पउम १०२, १५६, विचार १००) । °नागरी स्त्री [°नागरी] एक जैन मुनि शाखा (कम्म) । °नाभ पुं [°नाभ] एक जैन मुनि (पउम २०, १६) । देखो °णाभ । °पाणि पु [°पाणि] १ इन्द्र (उत्त ११, २३, देवेन्द्र २८३, उप २११ टी) । २ एक विद्याधर-नरपति (पउम ५, १७) । °पभ न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम २५) । °वाहु पुं [°वाहु] एक विद्याधर-वशीय राजा (पउम ५, १६) । °भूमि स्त्री [°भूमि] लाट देश का एक प्रदेश (आवा १, ६, ३, २) । °म (अप) देखो मय (हे ४, ३६५) । °मञ्जु पु [°मञ्जु] १ राक्षस-वश का एक राजा, एक लंकेश (पउम ५, २६३) । २ रावणाधीन एक सामन्त राजा (पउम ८, १३२) । °मञ्जा स्त्री [°मञ्जा] एक प्रतिमा, व्रत-विशेष (श्रौप २४) । °मय वि [°मय] वज्र का बना हुआ (पउम ६२, १०) । स्त्री °मई (नाट—उत्तर ४५) । °रिसहनाराय न [°श्रुपभनाराच] सहनन-विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम वन्य (कम्म १, ३८) । °रुव न [°रुप] एक देव-विमान (सम २५) । °लेस न [°लेस्य] एक देव-विमान (सम २५) । °व (अप) देखो °म (हे ४, ३६५) । °वण्ण न [°वर्ण] एक देव-विमान (सम २५) । °वेग पु [°वेग] एक विद्याधर का नाम (महा) । °सिराला स्त्री [°श्रुहला] एक विद्या-देवी (सति ५) । °सिग न [°श्रुङ्ग] एक देव-विमान (सम २५) । °सिट्ट न [°सुट्ट] एक देव-विमान (सम २५) । °सुदर पु [°सुन्दर] विद्याधर-वश में उत्पन्न एक राजा (पउम ५, १७) । °सुजगहु पु [°सुजह जु] विद्याधर-वश का एक राजा (पउम ५, १७) । °सेण पु [°सेन] १ एक जैन मुनि, जो भगवान् श्रुपभदेव के पूर्व जन्म में उरु वे (पउम २०, १७) । २ विष्णु की चौदहवीं राताव्यो के एक जैन आचार्य (सिरि १३४६) । °हर पुं [°धर] १ इन्द्र, देवराज (ति १५, १८, उप) । २ नि वज्र को धारण करने-वाला (सुपा ३३८) । °उह पु [°युध] १ इन्द्र (पउम ३, १३७, ५१, १८) । २

विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६) । °भ पुं [°भ] एक विद्याधर-वशीय राजा (पउम ५, १६) । °वत्त न [°वर्त्त] एक देव-विमान (सम २५) । °स पुं [°श] एक विद्याधर-राजा (पउम ५, १७) ।

वज्रक पुं [वज्राङ्क] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६) ।

वज्रकुसी स्त्री [वज्राङ्कुशी] एक विद्या-देवी (सति ५) ।

वज्रत देखो वज्र = वद् ।

वज्रधर पु [वज्रधर] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६) ।

वज्रघटिता स्त्री [दे] मन्द-भाग्य स्त्री (सक्ति ४७) ।

वज्रण न [वर्जन] परित्याग, परिहार (सुर ४, ८२, स २७१, सुपा २४५, ध्रु ६) ।

वज्रणअ (अप) वि [वदित्] वजनेवाला, 'पडहु वज्रणअ' (हे ४, ४४३) ।

वज्रणया } स्त्री [वर्जना] परित्याग (सम वज्रणा } ४४, उत्त १६, ३०, उव) ।

वज्रमाण देखो वज्र = वद् ।

वज्रय वि [वर्जक] त्यागनेवाला (उवा) ।

वज्रर सक [कथय्] कहना, बोलना ।

वज्ररइ, वज्ररड (हे ४, २, षड्, महा) ।

वज्र वज्ररत (हे ४, २, चेइय १४६) ।

सक वज्ररिऊण (हे ४, २) । क वज्ररि-अन्व (हे ४, २) ।

वज्रर देखो वंजर = मार्जर (चड) ।

वज्रर पु [वर्जर] १ देश-विशेष । २ नि.

देश-विशेष मे उत्पन्न, 'परिवाहिया य तेषां बहुवे वल्हीयतुस्वकवज्रराइया आसा' (स १३) ।

वज्ररण न [कथन] उक्ति, वचन (हे ४, २) ।

वज्ररा स्त्री [दे] तरंगिणी, नदी (दे ७, ३७) ।

वज्ररिअ वि [कथित] कहा हुआ, उक्त (हे ४, २, सुर १, ३२, भवि) ।

वज्रा स्त्री [दे] अधिकार, प्रस्ताव (दे ७, ३२, वज्रा २) ।

वज्राव (अप) सक [वाचय्] वचवाना, पढाना । वज्रावइ (प्राक् १२०) ।

वज्राव सक [वाद्य्] बजाना । वज्रावइ (भवि) ।

वज्राविय वि [वादित] बजाया हुआ (भवि) । वज्रि पुं [वज्रिन्] इन्द्र (सबोध ८) ।

वज्रिअ वि [दे] अवलोकित, दृष्ट (दे ७, ३६, महा) ।

वज्रिअ वि [वादित] बजाया हुआ (सिरि ५२५) ।

वज्रिअ वि [वर्जित] रहित (उवा, श्रौप-महा, प्रासू ७६) ।

वज्रियाव पु [दे] शेलडी (व्यव० भाष्य०) ।

वज्रियावग पु [दे] इंसु, ऊख (वव १) ।

वज्रिर वि [वदित्] बजनेवाला (सुर ११, १७२, सुपा ४५, ८७, सिरि १५५, सण), 'गह्खि(?व)जिराउज्जगज्जिज्जिरियवभडभडो-यरो' (कुप्र २२४) ।

वज्जुत्तरवडिसग न [वज्जोत्तरावत्तंसक] एक देव-विमान (सम २५) ।

वज्जोयरी स्त्री [वज्जोदरी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३८) ।

वज्जु वि [वध्य] वध के योग्य (सुपा २४८, गा २६, ४६६, दे ८, ४६) । °नेवस्थिय वि [°नेपस्थियक] मृत्यु-दंड-प्राप्त को पहनाया जाता वेष वाला (पएह १, ३—पण ५४) ।

°माला स्त्री [°माला] वध्य को पहनाई जाती माला, कनेर के फूलों की माला (अत्त १२०) ।

वज्जु वि [वाह] १ वहन करने योग्य (प्राप्र, उप १५० टी) । २ न अश्व आदि यान (स ६०३) । °खेडु न [°खेल] कला-विशेष, यान की सवारी का इल्म (स ६०३) ।

वज्जु स्त्री [हरया] वध, घात (सुख ४, ६, महा) ।

वज्जिभयायण न [वध्यायन] गोत्र-विशेष (सुज १०, १६) ।

वज्ज (अप) देखो वज्ज = वज्ज । वज्जइ, वज्जि (पड्) ।

वट्ट सक [वृत्] १ वर्तना, होना । २ आचरण करना । वट्टइ, वट्टए, वट्ट ति (सुर ३, ३६, उव, कम्म) । वट्ट, वट्टत, वट्टमाण (गा ४१०, कम्म ३, २०, चेइय ७१३, भवि, उवा, पडि, कम्म, पि ३५०) । हेक्क वट्टेउ (चेइय ३६८) । क. वट्टियन्व (उव) ।

लिंय पु [निम्ब] वृक्ष-विशेष, नीम का पेड़, मराठी में 'लिंय' (हे १, २३०, कुमा, स ३५)।

लिंय वि [दे] ? कोमल । २ नम्र (राय ३५)।

लिंय पुं [दे लिम्ब] आस्तरण-विशेष (गाया १, १—पत्र १३)।

लिंयड (अप) देखो लिंय = निम्ब, गुजराती में 'लिंयडो' (हे ४, ३८७, पि २४७)।

लिंयोहली बी [दे] निम्ब-फल (सूक्त ८१)।

लिंयार देखो लिंयार (पि ५६)।

लिंयक अक [नि + ली] छिपना । लिंयकइ (हे ४, ५५, षड्) । वक्र लिंयकत (कुमा)।

लिंयख न [लेख्य] लेखा, हिसाब, 'लिंयख गणिकण चितए सिट्टो' (सिरि ४१८, सुपा ४२५)। देखो लेख्य।

लिंयख बीन [दे] छोटा झोत (दे ७, २१)।

बी 'करखा (दे ७ २१)।

लिंयखा बी [लिंखा] ? लघु युका, छोटा चूँ, लीख—सर के बालो में होता कीडा (दे ८, ६६, स ६७)। २ परिमाण-विशेष (इक)।

लिंखाप (अशो) सक [लेख्य] लिखवाना । भवि लिंखापिसस (पि ७)।

लिंखापित (अशो) वि [लेखित] लिखवाया हुआ (पि ७)।

लिंयसक [लिंयस्] प्राप्त करने को चाहना । लिंयसइ (हे २, २१)।

लिंयस देखो लिंय (ठा ८—पत्र ४३७)।

लिंयस वि देखो लेख्यइ = लेख्यक (अत)।

लिंयसा बी [लिंयसा] लाभ की इच्छा (उप ६३०, प्राक २३)।

लिंयसु वि [लिंयसु] लाभ को चाहवाना (सुख ६, १, कुमा)।

लिंयसिअ (अप) वि [ल्यत] गृहीत (पिग)।

लिंयसिअ न [दे] ? चाट्ट, खुयामद (दे ७, २२)। २ वि लम्पट, लीचुप (सुपा ५६३)।

लिंयसु देखो लेट्टु (वसु)।

लिंयत वि [लिंय] ? लेप-युक्त, लिपा हुआ (हे १, ६, कुमा, भवि)। २ सवेष्टित (सुप्र १, ३, ३, १३)।

लिंयति पुकी [दे] खड्ग आदि का लोप (दे ७, २२)।

लिंयत देखो लिंय (गा ५१६, गउड)।

लिंयत देखो लेप (कुप्र ३८४)।

लिंयत } देखो लिप ।
लिंयमाण }

लिंयपासण न [लिंयपासन] मसी-भाजन, दोत, दोमात, दावात (राय ६६)।

लिंयमत देखो लिंय = लिह् ।

लिंयसिअ वि [दे] ? हरा, आइ । २ हरा रंगवाला, 'अइलिंयसिअरपट्टवधणमिसेण चोरसु पट्टवध व जो फुड तय जव्वहइ' (धर्मवि ७३)।

लिंयि } बी [लिंयि, पी] अक्षर-लेखन-प्रक्रिया
लिंयी } (सम ३५, भग)।

लिंयस अक [स्वप्] सोना, सूतना, शयन करना । लिंयसइ (हे ४, १४६)।

लिंयस सक [स्वप्] आलिगन करना । भवि लिंयसिआमो (सुप्र २, ७, १०)।

लिंयस वि [दे] तनुकृत, क्षीण (दे ७, २२)।

लिंयस देखो लिंय = लिप । लिंयसति (सुप्र १, ४, १, २)।

लिंयसक [लिंय] ? लिखना । २ रेखा करना । लिंयसइ (हे १, १८७, प्राक ७०)। कर्म लिंयसइ (उव)। प्रयो लिंयसइ, लिंयसति (कुप्र ३४८, सिरि १२७८)।

लिंयसक [लिंय] ? लिखना । लिंयसइ (कुमा, प्राक ७०)। कर्म लिंयसइ, लिंयसइ (हे ४, २४५)। वक्र लिंयस (भत १४२)।

कवक लिंयमत (से ६, ४१)। कृ लोचक (गाया १, १७—पत्र २३२)।

लिंयण न [लेहण] चाटन (उर १, ८, षड्, रमा १६)।

लिंयण न [लेखन] ? लिखना, लेख (कुप्र ३६८)। २ रेखा करण (हनु ५०)। ३ लिखवाना, पवयणलिंयण सहस्ते लकळे जिणभवणकारवण' (सवोव ३६)।

लिंया बी [लेया] देखो रेहा = रेखा, इक चिय मह भइणी मयणा धन्नाण धू (? धु)रि लहइ जिह' (सिरि ६७७)।

लिंयावण न [लेयन] लिखवाना (उप ७२४)।

लिंयावय वि [लेखित] लिखवाया हुआ (स ६०)।

लिंयिअ वि [लिंयित] ? लिखा हुआ (प्रासू ५८)। २ उल्लिखित (उवा)। ३ रेखा किया हुआ, चित्रित (कुमा)।

लिंयणअ (अप) वि [ल्यत] लिया हुआ, गृहीत (पिग)।

लीड वि [लीड] ? चाटा हुआ (सुपा ६५१)। २ स्पृष्ट, 'नरिदसिरि (? सिर) कुमुमलीडपायवीड' (कुप्र ५)। ३ युक्त (पव १२५)।

लीण वि [लीण] लय-युक्त (कुमा)।

लील पु [दे] यज्ञ (दे ७, २३)।

लीला बी [लीला] ? विलास, मौज । २ बीडा (कुमा, पात्र, प्रासू ६१)। ६ छन्द-विशेष (पिग)। 'वई बी [वती] ? विलास-वती बी (प्रासू ६१)। २ छन्द-विशेष (पिग)। 'वह वि [वह] लोला वाहक (गउड)।

लीलाइअ न [लीलायित] ? बीडा, केलि (कप्प)। २ प्रभाव, 'धम्मस्स लीलाइअ' (उप १०३१ टी)।

लीलाय सक [लीलाय] लीला करना । वक्र लीलायत (गाया १, १—पत्र १३, कप्प)। कृ लीलाइयव्व (गउड)।

लीय पु [दे] बाल, बालक (दे ७, २२, सुर १५, २१८)।

लीहा देखो लिहा (गाया १, ८—पत्र १४५, कुमा, भवि, सुपा १०६, १२४)।

लुअ सक [लु] छेदना, काटना । लुएज्जा (पि ४७३)।

लुअ देखो लुप । लुअइ (प्राक ७१)।

लुअ वि [लून] काटा हुआ, छिन्न (हे ४, २५८, गा ८, गा ८, से ३, ४२, दे ७, २३, सुर १३, १७५, सुपा ५२४)।

लुअ वि [लुम] ? जिसका लोप किया गया हो वह । २ न लोप (प्राक ७७)।

लुअत वि [लूनयत्] जिसने छेदन किया हो वह (पाल्वा १५१)।

लुक वि [दे] सुप्त, सोया हुआ (दे ७, २३)।

लुकणी बी [दे] बुकना, छिपना (दे ७, २४)।

लुख पुं [दे] नियम (दे ७, २३)।

लुखाय पुं [दे] निर्णय (दे ७, २३)।

अग जिसका वाहर निकन आया हो वह (पव ११०)। ५ जिसका पेट बडा होकर आगे निकल आया हो वह । स्त्री ०भी (गाया १, १—पत्र ३७, श्रौप, पि ३८७)।

चडय देखो चडग = चटक (सुपा ४८५)।

०चडल देखो पडल (गउड)।

चडवगिग पु [चडवाग्नि] चडवानल, समुद्र के भीतर की आग (गा ४०३)।

चडवड अक [चि + लप्] विलाप करता । चडवडइ (हे ८, १४८), चडवडति (कुमा)।

चडवा स्त्री [चडवा] घोड़ी (पाम्न, धर्मवि १४५)। ०गल, नल पु [०नल] समुद्र के भीतर की आग, चडवाग्नि (पि २४०, आ १६)। ०मुह न [०मुख] १ वही अर्थ (से १, ८)। २ एक महा-पाताल (इक)। ०हुआस पु [०हुताश] चडवानल (समु १५४)।

चडह देखो चडभ (आचा १, २, ३, २)।

चडह पु [दे] पक्षि-विशेष (दे ७, ३३)।

०चडह देखो पडह (से १२, ४७)।

चडही देखो चलही (गउड)।

०चडाआ देखो पडाया (गा १२०)।

०चडालि स्त्री [दे] पक्ति, श्रेणि (दे ७, २६)।

०चटाहा देखो पडाया, धवलचयवडाहो (महा)।

०चडिअ देखो पडिअ (से ५, १०, कुप्र १८१, उवा)।

चडिअ नि [गृहीत] ग्रहण किया हुआ (सुर १, १६९)।

चडिन पु [वतस] १ मेघ पर्वत (सुज ५ टी—पत्र ७८)। २ भूपण, 'रायकुलचडिसगा नि मुणिवमना' (उज, कप्प)। ३ एक दिग्गन्ति-रूट (इक)। ४ प्रवान, मुख्य। ५ श्रेष्ठ, उत्तम (कप्प, महा)। ६ कर्णपुर, वान ना आभूषण (गाया १, १—पत्र ३१)। ७ नो चडेंस, अजयस।

चडिणाय पु [दे] चर्चर नएठ, बैठा हुआ जला (प२)।

चडिया स्त्री [चुत्तिता] चर्चन, 'नयवतदसण-चडियाए' (स ६८३, आचा २, ७, १)।

०चडिया देखो पडिया = प्रतिज्ञा (आचा २, ७, १)।

चडिसर न [दे] चूली-मूल, चूल्हे का मूल (दे ७, ४८)।

चडिवस्सअ वि [वरिवस्यक] पूजक, पूजा करनेवाला (चार १)।

चडिसाअ वि [दे] स्मृत, टपका हुआ (षड्)।

चडी स्त्री [दे] चडी, एक प्रकार का खाद्य (पव ३८)।

चडुमग } देखो चट्टमग (श्रौप, आचा)।
चडूसग }

चडेंस पु [वतस] शेखर, मुकुट (भग, गाया १, १ टी—पत्र ५)। देखो चडेंस।

चडेंसा स्त्री [वतसा] किनर नामक किन्नरेन्द्र की एक अग्रमहिषी (ठा ४, १—पत्र २०४, गाया २—पत्र २५२)।

चडेंसिया स्त्री [वतसिका] अवतस की तरह करना, मुकुटस्थानापन्न करना, 'अट्टारसव-जणाल भोगण भोगावेत्ता जावजीव पिडिव-डेंसियाए परिवहेजा' (ठा ३, १—पत्र ११७)।

चडु वि [दे] बडा, महान् (दे ७, २९, तडु ५५, सुपा १२४, गाया २—पत्र २४८, सम्मत १७३, भवि, हे ४, ३६६, ३६७, ३७१)। ०अत्थरग पु [०आस्तरक] अँट की पीठ पर रखा जाता आसन (पव ८४ टी)। ०त्तण न [०त्व] चडप्पन, महत्ता (हे ४, ३८४, कप्प)। ०पण (अप) न [०त्व] वही (हे ४, ३६६, ४३७, पि ३००)। ०थर वि [०तर] विशेष बडा (हे २, १७४)।

चडुवास पु [दे] मेघ, अन्न (दे ७, ४७, कुमा)।

चडुहुल्लि पु [दे] मालाकार, माली (दे ७, ४२)।

चडुवर (अप) देखो चडु-यर (भवि)।

चडुिम वि [दे] स्मृत, टपका हुआ (पड्)।

चडुिल [दे] देखो चडु, 'नयणाण पडउ वज्ज अहवा वज्जस्स चडुिल किपि। अमुणियजणेवि दिट्ठे अणुवच जाणि कुव्वति' (सुर ४, २०, वजा ६२)।

चडुअर देखो चडु-यर (पड्)।

चडुअक [वृध्] बढना। चडुअइ (हे ४, २२०, महा, काल)। भूका चडुअत्या (कप्प)। चडु चडुअंत, चडुअमाण (सुर १, ११९, महा, गा ११३)। हेक चडुअउ (महा)।

चडुअक [वर्धय] १ बढाना, विस्तारना। २ बघाई देना। चडुअति (उव)। चडुअत (नाट—मुच्छ १८)। कर्म, चडुअजति (सिदि ४२४)। देखो चडुअ = वर्धय।

चडुअइ पु [वर्धकि] बढई, सुतार (सम २७, उप पृ १५३, पाम्न, धर्मस ४८९, दे ७, ४४)।

चडुअइअ पु [दे] चर्मकार, मोची (दे ७, ४४)।

चडुअण न [वर्धन] १ वृद्धि, बढाव (कप्प)। २ वि. वृद्धि-जनक (महा, सुर १३, १३९)।

चडुअणमिर वि [दे] पीन, पुष्ट (दे ७, ५१)।

चडुअणसाल वि [दे] जिसकी पूँछ कट गई हो वह (दे ७, ४९)।

चडुअमाण देखो चडुअ = वृध्।

चडुअमाण } न [वर्धमान, ०क] १
चडुअमाणय } गुजरात का एक नगर, जो

आजकल 'बढवाण' के नाम से प्रसिद्ध है, 'सिरिवडुअमाणनयर पत्ता गुजरघरावलय' (सम्मत्त ७५)। २ अवधिज्ञान का एक भेद, उत्तरोत्तर बढता जाता एक प्रकार का परोक्ष रूपी द्रव्यो का ज्ञान (ठा ६—पत्र ३७०, कम्म १, ८)। ३ पु. भगवान् महावीर (भवि)। देखो चडुअमाण।

चडुअय देखो चडुअ = दे, 'पाणभरियं चडुअयं पियावयणसमपिय पियमाण पि तीए सुटुअर भरियमसुएहि' (स ३८२)।

चडुअय सक [वर्धय, वर्धापय] १ बढाना, वृद्धि करना। २ बघाई देना, अम्युदय का निवेदन करना। चडुअइ (प्राक्क ६०)।

चडुअवअ वि [वर्धक] १ बढानेवाला २ बघाई देनेवाला (प्राक्क ६१)।

चडुअवण न [दे] वज्र का आहरण (दे ७, ८७)।

चडुअण न [दे] वर्धापन] बघाई, अम्युदय-निवेदन (दे ७, ८७)।

लूड वि [लुण्ट] लूडेवाला । बी. °डी,
 'सो नरिय एथ गामे जो
 एयं महमहतलायण ।
 तख्याण हिययलुडि
 परिसकति निवारेइ ॥'
 (हेका २६०, काम ६१७) ।

लूडण न [लुण्टन] लूट, चोरी (स ४४१) ।

लूडिअ वि [लुण्टित] लूटा हुआ (स ५३६,
 पत्रम ३०, ६२, सुपा ३०७) ।

लूण देखो लूअ = लून (दे ७, २३, सुपा
 ५२२, कुमा) ।

लूण न [लूण] ? लून, लून, चीन, नमक
 (जी ४) । २ पु वनस्पति विशेष (आ २०,
 धर्म २) । देखो लूणण ।

लूण न [लूणण] लावण्य, सुन्दरता, शरीर-
 कान्ति (सुपा २६३) ।

लूर सक [लूड] काटना । लूरइ (हे ४,
 १२४) ।

लूरिअ वि [लूडिअ] काटा हुआ (कुमा ६,
 ८३) ।

लूस सक [लूपय] ? बघ करना, मार
 डालना । २ पीडना, कदर्थन करना, हैरान
 करना । ३ दूषित करना । ४ चोरी करना ।
 ५ विनाश करना । ६ अनादर करना । ७
 तोडना । ८ छोटे को बडा और बडे को
 छोटा करना । लूसति, लूसयति, लूसणजा
 (सूत्र १, ३, १, १४, १, ७, २१, १, १४
 १६, १, १४, २५) । भूका लूसिमु (आचा) ।
 सक लूसिउ (आ १२) ।

लूसअ } वि [लूपरु] ? हिसक, हिसा करने-
 लूसग } वाला । २ विनाशक (सूत्र २, १,
 ५०, १, २, ३, ६) । ३ प्रकृति-कूर, निर्दय ।
 ४ मधक (सूत्र १, ३, १, ८) । ५ दूषित
 करनेवाला (सूत्र १, १४, २६) । ६ विरा-
 धक आज्ञा नही माननेवाला (सूत्र १, २, २,
 ६, आचा) । ७ हेतु-विशेष (ठा ४, ३—पत्र
 २५४) ।

लूसण वि [लूणण] ऊपर देखो (आचा,
 भौष) ।

लूसय वि [लूपरु] ? परित्यापकर्ता (आचा
 २, १, ६, ४) । २ चोर, तस्कर (वव ४) ।

लूसिअ वि [लूषित] ? लुण्टित, लुटा गया
 (आ १२) । २ उपद्रुत, पीडित (सम्मत
 १७५) । ३ विनाशित (सबोध १०) । ४
 हिसित (आचा) ।

लूह सक [सूज्, रूक्षय्] पोखना । लूहेइ,
 लूहेति (राय, याया १, १—पत्र ५३) ।
 सक लूहिचा (पि २५७) ।

लूह पु [रूक्ष] मुनि, साधु श्रमण (दसान
 २, ६) ।

लूह वि [रूक्ष] ? लूबा, लूबा, स्नेह-रहित
 आचा, पिंड (२६, उव) । २ पु समय, विरति,
 चारित्र (सुत्र, १, ३, १, ३) । ३ न तप-
 विशेष, निविकृतिक तप (सबोध ५८) । देखो
 लूकख ।

लूहिय वि [रूक्षित] पोखा हुआ (याया १,
 १—पत्र १६, कण, भौष) ।

ले सक [ला] लेना, ग्रहण करना । लेइ (हे
 ४ २३८, कुमा) । वकू लित (सुपा २५२,
 पिंग) । सक लेवि (अप) (हे ४, ४४०) ।
 हेकू, लेविणु (अप) (हे ४, ४४१) ।

लेकख न [लेखय] ? व्यवहार, व्यापार (सुपा
 ४२४) । २ लेखा, हिसाब (कुप्र २३८) ।

लेकखा देखो लिहा (गवड) ।

लेख देखो लेइ = लेख (सम ३५) ।

लेखापित देखो लिखापित (पि ७) ।

लेच्छइ पु [लेच्छकि] ? क्षत्रिय विशेष ।
 २ एक प्रसिद्ध राज-वंश (सूत्र १, १३, १०,
 अग, कण, भौष, अत) ।

लेच्छइ पु [लिप्सुक लेच्छकि] ? वणिक्,
 बैरय । २ एक वणिग-जाति (सूत्र २, १,
 १३) ।

लेच्छारिय वि [दे] खरण्टित, लिप्त (पिंड
 २१०) ।

लेन्म देखो लिह = लिहू ।

लेट्टु पु न [लेट्टु] रोडा, इंट, पत्थर आदि
 का टुकडा (विसे २४६६, भोग, उव, कण,
 महा) ।

लेट्टु } पु न [दे लेट्टु] ऊपर देखो (पाम-
 लेट्टुअ } दे ७, २४) ।

लेट्टुक पु [दे] ? रोडा, लोट । २ वि
 लम्पट (दे ७, २६) ।

लेडिअ न [दे] स्मरण, स्मृति (दे ७, २५) ।

लेट्टुक पु [दे] रोडा, लोट (दे ७, २५,
 पाम) ।

लेण न [लयन] ? गिरि-वर्ती पापाण-गृह
 (याया १, २—पत्र ७६) । २ विल, जन्तु-
 गृह (कण) । °विहि पुली [°विधि] कला-
 विशेष (भौष) । देखो लयण = लयन ।

लेप न [लेप्य] चित्ति, भीत (धर्मस २६,
 कुप्र ३००) ।

लेप्यार पु [लेप्यार] शिल्पी-विशेष,
 राज, राजगीर (अणु १४६) ।

लेप्या बी [लेप्या] लेपन क्रिया (उत्त १६,
 ६५) ।

लेलु देखो लेडु (आचा, सूत्र २, २, १८,
 पिंड ३४६) ।

लेव पु [लेप] ? लेपन (सम ३६, पत्रम २,
 २८) । २ नाभि-प्रमाण जल (शोधमा ३४) ।
 ३ पु भगवान् महावीर के समय का नासवा-
 निवासी एक गृहस्थ (सूत्र २, ७, २) । °कड,
 °ड वि [°कृत] लेप-मिश्रित (शोध ५६५,
 पत्र ४ वे—पत्र ४६, पडि) ।

लेण न [लेपन] लेप-करण (पत्र १३३) ।

लेमाड वि [लेपकन] लेप कारक (वव १) ।

लेस पु [लेश] ? श्लेष, स्तोत्र, जव, योडा
 (पाम, दे ७, २८) । २ संलेप (व १) ।

लेस वि [दे] ? लिखित । २ आद्यस्त । ३
 नि शब्द, शब्द-रहित । ४ पु निद्रा (दे ७,
 २८) ।

लेस पु [श्लेष] सरलेप, सवन्व, मिलान
 (राय) ।

लेसण न [श्लेषण] ऊपर देखो (विसे
 २०७) ।

लेसणया } बी [श्लेषणा] ऊपर देखो (भौष-
 लेसणा } ठा ४, ४—पत्र २८०, राज) ।

लेसणी बी [श्लेषणी] विद्या-विशेष (सूत्र
 २, २, २७, याया १, १६—पत्र २१३) ।

लेसा बी [लेसा] ? तेज, बीति । २ मरक-
 विन्द, 'बंदस लेस आवरेताण चिट्ठइ' (सम
 २६) । ३ किरण (सुज १६) । ४ देह
 सौन्दर्य (राज) । ५ आत्मा का परिणाम-
 विशेष, कृप्यादि इन्वो के सान्निध्य से उत्पन्न
 होनेवाला आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम ।
 ६ आत्मा के शुभ या अशुभ परिणाम की उदात्ति

१४, ६६, सुपा २७६, सुर १, ११३, प्रासू ८०, कुमा, महा) ।

वणिअ वि [वणित] ब्रह्म-युक्त, घाववाला (गा ४५८, ६४६, पचम, ७५, १३) ।

वणिअ पु [वर्नापक] भिक्षुक, भिखार, 'वणि जायणि त्ति वणिओ पायप्पाण वणेइत्ति' (पिड ४४३) ।

वणिअ न [वणिज] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण (विने ३३४८, सूत्रानि ११) ।

वणिआ लो [वनिका] वाटिका, बगीचा, 'असोयवणिआइ मज्झयारम्मि' (भाव ७, उवा) ।

वणिआ लो [वनिता] लो, महिला, नारी (गा १७, कुमा, तदु ५०, सम्मत्त १७५) ।

वणिज देखो वणिअ = वणिज् (चार ३४) ।

वणिज } न [वाणिज्य] व्यापार, वैपार,
वणिज् } 'एत्तियकाल हट्टे जइ त चिट्ठेसि
वणिज्जकइ' (सुपा ५१०, २५२), 'उज्जेणी-
आगओ वणिज्जणे' (पउम ३३, ६६, स
४४३, सुर १, ६०, कुप्र ३६५, सुपा ३८४,
प्रासू ८०, भवि, आ १२) । 'रय वि
[कारक] व्यापारी (सुपा ३४३, उप पु
१०४) ।

वणिम } देसो वणीमय (दस ५, १, ५१) ।
वणीमग } २ दरिद्र, निर्धन (दस ५, २, १०) ।
वणी लो [वनी] १ भोख से प्राप्त धन (ठा ५,
३—पत्र ३४१) । २ फली-विशेष, जिससे
कपास निकलता है (राज) ।
वणीमग } पु [वनीपक] याचक, भिक्षुक,
वणीमय } भिखारी (ठा ५, ३, सुपा १६८,
सए, धोव ६३६) ।

वणे म्र. इल अओ का सूचक अव्यय—१ निधय
(द २, २०६, कुमा) । २ विकल्प । ३
अनुकम्पनीय । ४ सभावना (हे २, २०६) ।

वणेचर देखो वग-यर (रयण ५६) ।

वण सक [वर्णय] १ वर्णन करना । २
प्रशंसा करना । ३ रंगना । वणअओ (पि
६६०) । वम वणिणज्जइ (सिदि १२८८),
वणिणमइ (अप) (हे ४, ३४५) । वट्ट
वणणत (गा ३५०) । हेह. वणिणउ (पि
५-३) । क वणणणिज्ज, वणणेअव्व (हे
३, १७६, न) ।

वण पुं [वर्ण] १ प्रशंसा, श्लाघा (उप
६०७) । २ यश, कीर्ति (ओष ६०) । २
शुक्ल आदि रंग (भग, ठा ४, ४, उवा) । ४
अकार आदि अक्षर । ५ ब्राह्मण, वैश्य आदि
जाति । ६ गुण । ७ अगाराग । ८ सुवर्ण,
सोना । ९ विलेपन की वस्तु । १० व्रत-
विशेष । ११ वर्णन । ११ विलेपन क्रिया ।
१३ गीत का रूप । १४ चित्र (हे १, १७७,
प्राप्र) । १५ कर्म-विशेष, शुक्ल आदि वर्ण
का कारण-भूत कर्म (कम्म १, २४) । १६
सयम । १७ मोक्ष, मुक्ति (आचा) । १८ न.
कुकुम (हे १, १४२) । 'णाम, 'नाम पुन
[नामन्] कर्म-विशेष (राज, सम ६७) ।
'मत वि [वत्] प्रशस्त वर्णवाला
(भग) । 'वाइ वि [वादिन्] श्लाघा-कर्ता,
प्रशंसक (वव १) । 'वाय पुं [वाद्] प्रशंसा,
श्लाघा (पचा ६, २३) । 'वास पु
[वास] वर्णन-प्रकरण, वर्णन-पद्धति (जीव
३, उवा) । 'वास पु [व्यास] वर्णन-
विस्तार (भग, उवा) ।

वण पु [वर्ण] पचम आदि स्वर । 'सम न
[सम] गेय काव्य का एक भेद (दसनि २,
२३) ।

वण वि [दे] १ अच्छ, स्वच्छ । २ रक्त ।
(दे ७, ८३) ।

वण देखो पण (गा ६०१, गउड) ।

वणग देखो वणणय (उवा, श्रौप) ।

वणण न [वर्णन्] १ श्लाघा, प्रशंसा
(कप्पु) । २ विवेचन, विवरण, निरूपण
(रयण ४) ।

वणणणा लो [वर्णना] ऊपर देखो (हे १,
२१, सार्व ४५) ।

वणणय पुन [दे वर्णक] १ चन्दन, श्रीखण्ड
(दे ७, ३७, पचा ८, २३) । २ पिष्टातक-
शुण, अगाराग (दे ७, ३७, स्वप्न ६१) ।

वणणय पु [वर्णक] वर्णन-ग्रन्थ, वर्णन-प्रकरण
(विपा १, १, उवा, श्रौप) ।

वणिअ वि [वणित] जिसका वर्णन किया
गया हो वह (महा) ।

वणिआ देखो वणिआ (गा ६२०) ।

वणि पु [वृष्णि] १ एक राजा, जो अश्वक-

वृष्णि नाम से प्रसिद्ध था, 'वरिह पिपा
धारिणी माया' (अंत ३) । २ एक अन्तकृद्
महावि, 'अश्वकवृष्णि-वश में उत्पन्न, यादव (एदि) ।
३ अश्वकवृष्णि-वश में उत्पन्न, यादव (एदि) ।
'दसा लो व [दशा] एक जैन आगम-
ग्रन्थ (निर ५) । 'पुंगव पु [पुगव] यादव-
श्रेष्ठ (उत्त २२, १३, एया १, १६—पत्र
२११) ।

वणि पु [वृष्णि] १ अग्नि, आग (पाप्र,
महा) । २ लौकान्तिक देवों की एक जाति
(एया १, ८—पत्र १५१) । ३ चित्रक
वृक्ष । ४ मिलावा का पेड़ । ५ नीबू का
गाछ (हे २, ७५) ।

वत देखो वय = व्रत (चड) ।

वति देखो वइ = व्रतिन् (उप ३८१) ।

वति देखो वइ = वृति (चंड) ।

वतु पु [दे] निवह, समूह (दे ७, ३२) ।

वत्त देखो वट्ट = वृत् । वत्तइ (भवि), वत्तदि
(शौ) (स्वप्न ६०) ।

वत्त देखो वट्ट = वृत् । वत्तइ (भवि) । वत्तेज्ज
(आचा २, १५, ४२) । वत्तेज्जासि, वत्तेहामि
(उवा, पि ५२८) ।

वत्त न [वार्त्त] आरोग्य (उत्त १८, ३८) ।

वत्त वि [व्याप्त] फैला हुआ, भरपूर (कप्प,
विसे ३०३६) ।

वत्त देखो वट्ट = वृत् (स ३०८, महा, सुर १,
१७८, ३, ७६, श्रौप, हे १, १४५) ।

वत्त वि [व्यक्त] प्रकट, खुला (वर्मस ५५५) ।

वत्त न [वक्त्र] मुख, मुँह (हे १, १८,
भवि) ।

वत्त देखो पत्त = पत्र (गा ६०४, हेका ५०,
गउड) ।

वत्त देखो पत्त = पात्र (गउड, गा ३००) ।

वत्त देखो वत्ता (भवि) । 'थार वि [कार]
वार्त्ता कहनेवाला (भवि) ।

वत्तअ पु [व्यत्यय] १ विपर्यय, विपर्यास ।
२ व्यविक्रम, उल्लंघन (प्राकृ २१) ।

वत्तए देखो वय = वच् ।

वत्तडिआ } (अप) देखो वत्ता (कुमा, हे ४, ३
वत्तडो } ४३२, सए) ।
वत्तग न [वर्त्तन] १ जोविका, निरुत्ता (से ६,
न तुम मच्छएहि कुडु ववत्तए

°वाल देखो °पाल (कुप्र १३५)। °वीर पु [°वीर] भगवान् महावीर (उव)। °सिंग न [°शृङ्ग] एक देव-विमान (सम २५)। °सिट्ट न [°सृष्ट] एक देव-विमान (सम २५)। °हिअ न [°हित] एक देव-विमान (सम २५)। °यय न [°यत] नास्तिक-प्रणीत शास्त्र, चार्वाक-दर्शन (एदि)। °लोग पुन [°लोक] परिपूर्ण आकाश-क्षेत्र, सपूर्ण जगत (उव, पि २०२)। °वन्त न [°वर्त्त] एक देव-विमान (सम २५)। °हाण न [°ख्यान] लोकोक्ति, जन-श्रुति (उप ५३० टी)। लोगतिय देखो लोअतिय (पि ४६३)।

लोगिग देखो लोइअ = लौकिक (धर्मस १२५८)।

लोगुत्तर देखो लोउत्तर। °वडिसय न [°वर्त्तसक] एक देव-विमान (सम २५)। लोगुत्तर पु [°लोकोत्तर] मुनि, साधु। २ जिन-शासन, जैन सिद्धान्त (अणु २६)।

लोगुत्तरिअ वि [°लोकोत्तरिक] १ साधु का। २ जिन शासन का (अणु २६)।

लोगुत्तरिय देखो लोउत्तरिय (श्लोष ७६५)। लोट्ट अक [स्वप्] लोटना, सोना। लोट्टइ (हे ४, १४६)। वक्र. लोट्टय° (पाम्र)।

लोट्ट अक [लुठ्] १ लेटना। २ प्रवृत्त होना। लोट्टइ, लोट्टी (प्राक ७२, सूअ १, १५, १४)। वक्र. लोट्टत (मुपा ४६६)।

लोट्ट पु [दे] १ कच्चा चावल (निचू लोट्टय ४)। २ पुत्री हाथी का छोटा बच्चा (गाया १, १—पत्र ६३), ली °ट्टिया (गाया १, १)।

लोट्टिअ वि [दे] उपविष्ट (दे ७, २५)।

लोट्ट वि [दे] स्मृत (पड्)।

लोट्ट पु [लोष्ट] रोडा, ढेला (दे ७, २४)।

लोडाविअ वि [लोडित] धुमाया हुआ (गा ७६८)।

लोड सक [दे] कपास निकालना, लोड़ना, गुजरती में 'लोडबु'। वक्र लोडयत (राज)।

लोड पु [दे] १ लोडा, शिलापुत्रक, पीसने का पत्थर (वस ५, १, ४५, उवा)। २ श्लोष-विशेष, पपिनोकरन्द (पव ४, था

२०, सबोध ४४)। ३ वि. स्मृत। ४ शयित (दे ७, ७२६)।

लोडय पु [दे लोडक] कपास के बीज निकालने का यन्त्र (गउड)।

लोडिअ वि [लोडित] लेटवाया हुआ, सुलाया हुआ (पउम ६१, ६७)।

लोण न [लवण] १ लून, नमक। २ लावण्य, शरीर कान्ति (गा ३१६, कुमा)। ३ पृ वृक्ष विशेष (पउम ४२, ७, था २०, पव ४)। ४—देखो लवण (हे १, १७१, प्राप्र, गउड, श्रौप)।

लोणिय वि [लवणिक] लवण-युक्त, लवण-सम्बन्धी (श्रौप ७७६)।

लोणन [लवण्य] शरीर-कान्ति (प्राक ५)।

लोत्त न [लोत्त्र] चोरी का माल (स १७३)।

लोद्ध पु [लोद्ध] वृक्ष-विशेष (गाया १, १—पत्र ६५, पण १, सूअ १, ४, २, ७, श्रौप, कुमा)। देखो लुद्ध = लोघ्र।

लोद्ध देखो लुद्ध = लुब्ध (पाप्र, सुर ३ ४७, १०, २२३, प्राप्र)।

लोप्प देखो लुप, 'जो एग वाय लोप्पइ सो तिननि लोप्पयंतो कि केणावि घरिउं पारीयइ' (स ४६२)।

लोभ सक [लोभ्य] लुभाना, लालच देना। कन्नक लोभिज्जत (मुपा ६१)।

लोभ पु [लोभ] लालच, तृष्णा (आचा, कप्प, श्रौप, उव, ठा ३, ४)। २ वि लोभ-युक्त (पडि)।

लोभणय वि [लोभनक] लोभी, लालची (आचा २, १५, ५)।

लोभि } व [लोभिन्] लोभवाला (कम्म लोभिळ ४, ४०, पउम ४, ४६)।

लोम पुन [लोम] रोम, रोम्रां, रूंगटा (उवा)। °पक्खि पु [°पक्षिन्] रोम के पंखवाला पक्षी (ठा ४, ४—पत्र २७१)। °स वि [°श] लोभ-युक्त (गउड)। °हत्थ पु [°हस्त] पीछी, रोमों का बना हुआ फाडू (विपा १, ७—पत्र ७८, श्रौप, गाया १, २)। °हरिस पु [°हर्ष] १ नरकावास विशेष (देवेन्द्र २७)। २ रोमाळ, रोमों का खडा होना (उत्त ५, ३१)। °हार पु [°हार] मार कर घन सूटनेवाला धोर (उत्त ६, २८)। °हार पु।

[°हार] रूंगटों से लिया जाता ग्राहार, लवचा से ली जाती खुराक (भग, सूअनि १७१)।

लोमथिअ पु [दे] नट (नदि टिप्पण वैनयिक बुद्धिगत १३ वां कथानक)।

लोमसी ली [दे] १ ककडी, खीरा (उप पु २५२)। २ बल्ली विशेष, ककडी का गाछ (वव १)।

लॉय न [दे] सुन्दर भोजन, मिष्ठान (आचा २, १, ४, ३)।

लोर पुन [दे] १ नेत्र, आँख। २ शत्रु, श्रांसू (पिंग)।

लोल अक [लुठ्] १ लेटना। २ सक, विलोडन करना। लोलइ (पिड ४२२, पिंग), 'लोलेइ रत्तसवल' (पउम ७१, ४०)। वक्र. लोलत, लोलमाण (कप्प, पिंग, पउम ५३, ७६)।

लोल सक [लोठ्य] लेटना। लोलेइ, लोलेमि (उवा)।

लोल वि [लोल] १ लम्पट, लुब्ध, धासक (गाया १, १ टी—पत्र ५, श्रौप, पाप्र, कप्प, मुपा ३६५)। २ पु रत्न-प्रभा नरक का एक नरकावास (ठा ६—पत्र ३६५, देवेन्द्र ३०)। ३ शंकराप्रभा नामक द्वितीय नरक-पृथिवी का नववाँ नरकेन्द्रक—नरक-स्थान (देवेन्द्र ७)। °मउम पु [°मध्य] नरकावास-विशेष (ठा ६ टी—पत्र ३६७)। °सिट्ट पु [°शिष्ट] नरकावास विशेष (ठा ६ टी)। °वत्त पु [°वर्त्त] नरकावास विशेष (ठा ६ टी, देवेन्द्र ७)।

लोलेइअ न [दे] चाटू, खुरामद (दे ७, २२)।

लोलाण न [लोठन] १ लेटना, घोलन (सुअ १, ५, १, १७)। २ लेटवाना (उप ५:०)।

लोलापन्न पु [लोलापक्ष] नरक स्थान विशेष (देवेन्द्र ३०)।

लोलिक न [लौल्य] लम्पटता, लोसुपता (पण १, ३—पत्र ४३)।

लोलिम पुत्री [लोलत्त्व] ऊपर देखा (कुमा)।

लोलुअ वि [लोलुप] १ लम्पट, लुब्ध (पउम १, ३०, २६, ८७; पाप्र, सुर १४, ३३)। २ पु रत्नप्रभा नरक का एक नरकावास

वद देखो वय = वद । वदसि, वदह (उवा, भग, कप्प) । भूका वदासी (भग) । हेइ वदित्तए (कप्प) ।

वद देखो वय = वत (प्राक १२, नाट—विक्र ५६) ।

वदिसा देखो वडेंसा (इक) ।

वदिकल्लिअ वि [दे] वलित, लौटा हुआ (दे ७, ५०) ।

वदूमग देखो वडूमग (आचा) ।

वदल न [दे] वदल] १ वहल, वादल, मेघ-घटा, दुविन (दे ७, ३५, हे ४, ४०१; सुपा ६५५, राय, आधम, ठा ३, ३—पत्र १४१) । २ पु. छठवीं नरक का दूसरा नरकेन्द्रक—नरक-स्थान (देवेन्द्र १२) ।

वदल्लिया छी [दे] वदल्लिका] वदली, छोटा वहल, दुविन (भग ६, ३३—पत्र ४६७, श्रौप) ।

वद्व देखो वडुद = वधय् । कर्म, वदसि (सुपा ६०) ।

वद्व पुन [वध्र] चर्मरज्जु, 'वज्जो वदो' (? वध्मो वदो) (पात्र, दे ६, ८८, पव ८३, सम्मत १७४) ।

वद्व देखो विद्व = वृद्ध (प्राप्र, प्राक ७) ।

वद्वण न [वधर्न] १ वृद्धि, वदती (राया १, १, कप्प) । २ वि बढानेवाला (उप ६७३, महा) ।

वद्वणिजा } छी [वधर्निका, नी] समाजनी,
वद्वणी } भाडू (दे ८, १७, ७, ४१ टी) ।

वद्वमाण पु [वधर्मान] १ भगवान् महावीर (आचा २, १५, १०, सम ४३, अत, कप्प, पडि) । २ एक प्रसिद्ध पैनाचार्य (साधं ६३, विचार ७६, ती १५, पु ८) । ३ स्कन्ध-रोपित पुत्र, कन्धे पर चढाया हुआ पुरुष (प्रत, श्रौप) । ४ एक शाश्वत जिन-देव । ५ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा (पव ५६) । ६ न गृह विधेय (उत्त ६, २४) । ७ राजा रामचन्द्र का एक प्रेता-गृह—नाट्य शाला (पउम ८०, ५) । देखो वडुदमाण ।

वद्वमाण } पु [वधर्मान] ? अठ्ठासी
वद्वमाण } महागृह में एक महागृह, ज्योतिष्क
: निधेय (ठा २, ३—७८) । २ एक देव-
निमान (वेध १६०) । ३ न. पात्र निधेय,
६४

शराव (राया १, १—पत्र ५४, पउम १०२, १२०) । ४ पुं पुरुष पर आरूढ पुरुष, पुरुष के कन्धे पर चढा हुआ पुरुष । ५ स्वस्तिक-पठक । ६ प्रासाद-विशेष, एक तरह का महल (राया १, १—पत्र ५४, टी—पत्र ५७) । ७ न एक गाँव का नाम, अस्थिक ग्राम, अट्टियगामस पढम वद्वमाणय ति नाम होत्या' (आवम) । ८ वि कृता-भिमान, अभिमानी, गाँवत (श्रौप) ।

वद्वय वि [दे] प्रधान, मुख्य (दे ७, ३६) ।

वद्वार सक [वधय्] बढाना, गुजराती में 'वधारु' । वद्व वद्वारंत (सट्टि १२, सवोध ४, द्र ८) ।

वद्वारिय वि [वधित] बढाया हुआ (भवि) ।

वद्वार सक [वधय्, वधार्पय] वधाई देना । वद्वारिइ, वद्वारिइति (कप्प) । कर्म वद्वारिअसि (रमा) । वद्व वद्वारित (सुपा २२०) । सद्ध. वद्वारित्ता (कप्प) ।

वद्वारवण न [वधर्न, वधार्पन] वधाई, अभ्युदय-निवेदन (भवि, सुर ३, २४, महा, सुपा १२२, १३४) ।

वद्वारवणिया छी [वधर्निका, वधार्पनिका] ऊपर देखो (सिदि १३१६) ।

वद्वारवय वि [वधर्क, वधार्पक] वधाई देने-वाला (सुर १५, ७६, स ५७०, सुपा ३६१) ।

वद्वारविअ वि [वधित, वधार्पित] जिसको वधाई दी गई हो वह (सुपा १२२, १६५) ।

वद्विअ पु [दे] १ एरुद, नपुसक (दे ७, ३७) । २ नपुसक-विशेष, छोटी उन्न में ही खेद दे कर जिसका अएडकोप गलाया गया हो वह; वधिया (पव १०६ टी) ।

वद्विअ देखो वद्विअ = वृद्ध (भवि) ।

वद्वी छी [दे] अवश्य-कृत्य, आवश्यक कर्तव्य (दे ७, ३०) ।

वद्वीसक } पुन [दे] वद्वीसक] बाह्य-विशेष,
वद्वीसग } एक प्रकार का बाजा (एरुद २, ५—पत्र १४६, अतु ६) ।

वध देखो वद = वध (कुमा) ।

वधय देखो वदय (भग) ।

वधू देखो वदू (श्रौप) ।

वन्न देखो वण = वण्य् । वन्नेहि (कुमा, उव) । हेइ. वन्निउ (कुमा) । कृ वन्नणिज्ज (सुर २, ६७, रयण ५४) ।

वन्न देखो वण = वणं (भग, उव, सुपा १०३, सत्त ५६, कम्म ४, ४०, ठा ५, ३) ।

वन्नग देखो वणय (कप्प, आ २३) ।

वन्नण देखो वणण (उप ७६८ टी, सिदि ७२७) ।

वन्नणा देखो वणणणा (रमा) ।

वन्नय देखो वणय (पिड ३०८, कप्प) ।

वन्निअ देखो वण्णिअ (भग) ।

वन्निआ छी [वणिका] १ वानपी, नपुना- 'सगसस वन्निया मिव नयर इह अथि पाडली-पुत्त' (धर्मवि ६४) । २ लाल रंग की मिट्टी (जी ३) ।

वन्दि देखो वण्हि = वृष्णि (उत्त २२, १३) ।

वन्दि देखो वण्हि = वहि (चड) ।

वपु देखो वड = वपुस् (वव १) ।

वपप सक [वच ?] ढकना, आच्छादन करना । वप्पइ (धात्वा १५१) ।

वपप पु [वप्र] १ विजयक्षेत्र-विशेष, जवूदीप का एक प्रांत, जिसकी राजधानी विजया है (ठा २, २—पत्र ८०, जं ४) । २ पुन. किला, दुर्ग, कोट (ती ८) । ३ केदार, खेत, 'केआरो वधिण वप्पो' (पात्र, आचा २, १, ५, २, दे ७, ८३ टी) । ४ तट, किनारा, 'रोहो वप्पो य तडो' (पात्र) । ५ उन्नत भू-भाग, ऊँची-जमीन, 'वप्पाणि वा फलिहाणि वा पागाराणि वा' (आचा २, १, ५, २) ।

वपप वि [दे] १ तनु, कृश । २ बलवान्, वलिष्ठ । ३ भूत-गृहीत, भूताविष्ट (दे ७, ८३) ।

वपपइराय देखो व-पपइराय ।

वपपगा देखो वपपा (राज) ।

वपपगावई छी [वप्रकावती] जवूदीप का एक विजय क्षेत्र, जिसकी राजधानी का नाम अपराजिता है (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) ।

वपपा छी [वप्र] उन्नत भू-भाग, टेकडा, ऊँची जमीन (भग १५—पत्र ६६६) ।

वपपा छी [वप्रा] १ भगवान् नमिनाथका माता का नाम (सम १५१) । २ ला (सि ६,

व

व पुं [व] १ अन्तस्य व्यञ्जन वणं-विशेष, जिसका उच्चारणस्थान दन्त और श्रोष्ठ हैं (प्राप, प्रामा) । २ पुन वरुण (से १, १, २, ११) ।

व अ [व] देखो इत्र (से २, ११, गा १८, ६३, ६४, ७६, कुमा, हे २, १८२, प्रासू २) ।

व देखो वा = अ (हे १, ६७, गा ४२, १६४, कुमा, प्राक २६, मवि) ।

व० देखो वाया = वाच् । ० क्लेवअ वि [क्षेपक] वचन का निरसन—खण्डन (गा १४२ अ) । ० पहराय पु [पतिराज] एक प्राचीन कवि, 'गउडवहो' काव्य का कर्ता (गउड) ।

वअणीआ छी [दे] १ उन्मत्त छी । २ दु शील छी (षड्) ।

वअल अरु [प्र + सु] पसरना, फैलना । वअलइ (षड्) ।

वआड देखो वायाड = वाचाट (सक्षि २) ।

वइ अ [वै] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ अवधारण, निश्चय (विसे १८००) । २ अनुनय । ३ संबोधन । ४ पादपूति (चड) ।

वइ अ [दे] वदि, कृष्ण पक्ष, 'फगुणवइ-छट्टीए' (सुपा ८६) ।

वइ वि [व्रतिन्] व्रतवाला, समयी (उव, सुपा ४३६) । छी, ०णी (उप ५७१) ।

वइ छी [वाच्] वारी, वचन (सम २५, कप, उप ६०४, आ ३१, सुपा १८४, कम्म ४, २४, २७, २८) । ० गुत्त वि [०गुम्] वारी का समयवाला (आचा, उप ६०४) ।

० गुत्ति छी [०गुम्] वारी का समय (आचा) । ० जोअ, ० जोग पु [०योग] वचन-व्यापार (भग, परह १२) । ० जोगि वि [०योगिन्] वचन-व्यापारवाला (भग) ।

० मत वि [०मत्] वचनवाला (आचा २, १, ६, १) । ० मैत्त न [०मात्र] निरर्थक वचन (धर्मसं २८४, २८५, ८४४) । देखो वई ।

वइ छी [वृत्ति] बाड, कांटे आदि से बनाई जाती स्थानपरिधि, घेरा, 'बन्नाए रकड्ठा कीरति वईओ' (आ १०, गउड, गा ६६, उप ६४८, पउम १०३, १११, वजा ८६), 'उच्छू बोलति वइ' (धर्मवि ५३, सबोध ४२) ।

० वइ देखो पइ = पति (गा ६६, से ४, ३४, कप, कुमा) ।

वइ० देखो वय = वद ।

वइ० देखो वय = वज् ।

वइअ वि [दि] १ पीत, जिसका पान किया गया हो वह (दे ७, ३४) । २ आच्छादित, ढका हुआ, 'पच्छाइअनुमिआइ वइआइ' (प्राप्र) ।

वइअ वि [व्ययित] जिसका व्यय किया गया हो वह, 'किमिह दव्वेए वइएए बहुएए' (सुपा ५७८, ७३, ४१०) ।

वइअअम्भ पु [वैदम्भ] १ विदम्भ देश का राजा । २ वि विदम्भ देश में उत्पन्न (षड्) ।

वइअर पु [व्यतिकर] प्रसङ्ग, प्रस्ताव (सुर ४, १३६, महा) ।

वइअव्व देखो वय = वज् ।

वइआ छी [व्रजिका] छोटा गोकुल (पिड ३०६, सुख २, ५, शोध ८४) ।

वइआलिअ वि [वैतालिक] मगल स्तुति आदि से राजा को जगानेवाला मागध आदि (हे १, १५२) ।

वइआलीअ पुन [वैतालीय] छन्द-विशेष (हे १, १५१) ।

वइएस वि [वैदेश] विदेश सबन्धी, परदेशी (पउम ३३, २४, हे १, १५१, प्राक ६) ।

वइएह पु [वैदेह] १ वणिक, वैश्य । २ सूद पुरुष और वैश्य छी से उत्पन्न जाति-विशेष । ३ राजा जनक । ४ वि, वै-रहित से सन्नख रखनेवाला । ५ मिथिला देश का (हे १, १५१, प्राक ६) ।

वइगण न [दे] वैगन, वृत्ताक, भटा (दे ६, १००) ।

वइकच्छ पुं [वैकक्ष] उत्तरासग (श्रीप) ।

वइकलिअ न [वैकलय] विकलता (प्राप्र) ।

वइकुठ पु [वैकुण्ठ] १ उपेन्द्र, विष्णु (प्राप्र) । २ लोक-विशेष, विष्णु का नाम (उप १०३१ टी) ।

वइकत वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत, गुनवा हुआ (पउम २, ७७, उवा, पडि) ।

वइकम्म पु [व्यतिक्रम] विशेष उल्लंघन, व्रत-बोध-विशेष (ठा ३, ४—पउ १५६, पव ६, टी, पउम ३१, ६१) ।

वइगरणिय पु [वैकरणिक] राज कर्मचारि-विशेष (सुपा ५४८) ।

वइगा देखो वइआ (सुख २, ५, वृह ३) ।

वइगुण्य न [वैगुण्य] १ वैकल्य, अपरि-पूर्णता, असम्पन्नता (धर्मसं ८८४) । २ विप-रीतपन, विपर्यय (राज) ।

वइचित्त न [वैचित्त्य] विचित्रता (विसे ३११, धर्मसं ६५) ।

वइजवण वि [वैजवन] गोत्र विशेष में उत्पन्न (हे १, १५१) ।

वइणी देखो वइ = वतिन् ।

वइतुलिय वि [वैतुलिक] तुल्यता रहित (निहू ११) ।

वइत्तए } देखो वय = वद ।

वइत्ता } देखो वय = वच् ।

वइत्तु वि [वदित्तु] बोलनेवाला, 'युस वइत्ता भवति' (ठा ७—पय ३८६) ।

वइदम्भ देखो वइअम्भ (हे १, १५१) ।

वइदिस पु [वैदिश] १ अग्रन्ती देश, मातंग देश, 'वइदिन उज्जेओए नियपडिमा एलमग्घं च' (उप २०२) । २ वि, विदिशा सबन्धी (वृह ६) ।

वइदिस देखो वइएस (प्राप्र) ।

वइदेसिअ वि [वैदेशिक] विदेशीय, परदेशी (सक्षि ५, कुप्र ३८०, मिरि ३६३, नि ६१) ।

वइदेह देखो वइएह (प्राप्र) ।

२, प्रासू १५४) । °मत वि [°वत्] त्री
(आचा २, १, ६, १) ।
वय पुन [वयस्] १ उत्र, मायु (ठा ३,
३, ४, ४, गा २३२, उप पृ १८, कुमा,
प्रासू ४८, आ १४) । २ पत्नी (गउड, उप
पृ १८) । °त्थ वि [°स्थ] तरुण, युवा
(सुख १, १६) । °परिणाम पु [°परिणाम]
वृद्धता, बुढापा (से ४, २३, पात्र) ।
°वय पु [पच] पचन, पाक (आ २३) ।
°वय देखो पय = पद (स ३४५, आ २३,
गउड कप्प, से १, २४) ।
°वय देखो पय = पयस् (कुमा) ।
वयग न [दे] फल-विशेष (सिरि ११६८) ।
वयतरिअ वि [वृत्त्यन्तरित] बाड से तिरो-
हित (दे २, १३) ।
वयस पु [वयस्य] समान उमरवाला मित्र
(ठा ३, १—पत्र ११४, हे १, २६, महा) ।
वयसि देखो वचसि = वचस्विन् (राज) ।
वयंसी छी [वयस्या] सखी, सहेली (कप्प) ।
वयड पु [दे] वाटिका, बगोचा (दे ७, ३५) ।
वयण न [दे] १ मन्दिर, गृह । २ शय्या,
विछोना (दे ७, ८५) ।
वयण पुन [वदन्] १ फुल, मुंह, 'वअणो,
वअण' (प्राक ३३, वि ३५८, सुर २, २४३,
३, ४४, प्रासू ६२) । २ न कथन, उक्ति
(विसे २७६४) ।
वयण पुन [वचन] १ उक्ति, कथन, 'वयणा,
वयणाई' (हे १, ३३, पव २, सुर ३, ६४,
प्रासू १४, १३८, १५०, कुमा) । २ एकत्र
आदि संख्या का बोधक व्याकरण-शास्त्रीक
प्रत्यय (पएह २, २ टी—पत्र ११८) ।
वयणिज्ज वि [वचनीय] १ वाच्य, कथनीय,
मनिर्भय, 'वस्तु क्व्यद्विग्रम्भ वयणिज्ज' (सम्म
८, नूप २, १, ६०) । २ निन्दनीय (सुपा
३००) । ३ उपासमनीय, उनहना देने
योग्य (कुप्र ३) । ८ न वचन, शब्द (से ४,
१३, सम्म ५३, काप्र ८६६) । ५ लोकापवाद,
निन्दा (स ५३२) ।
वयर नि [दे] रणित (दे ७, ३८) ।
वयर देगो वर = वर (कप्प, उर, शोधभा
८, भाष ३५, नग, प्राप) ।
°वयर देगो वयर = वरर (मे १, २२) ।

वयराड देखो वइराड (सत्त ६७ टी) ।
वयल वि [दे] १ विकसता, खिलता (दे ७,
८४) । २ पु कलकल, कोलाहल (दे ७,
८४, पात्र) ।
वयली छी [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता
(दे ७, ३४, पात्र) ।
°वयस देखो वय = वयस्, 'सवयस' (आचा
१, ८, २, २) ।
वयस्स देखो वयस (स ३१४, मोह ४७,
अभि ५५, स्वप्न ७६) ।
वया छी [वपा] १ विवर, छिद्र । २ भेद,
चरवी (आ २३) ।
वया छी [वचा] १ शोधवि विशेष । २ मैना,
सारिका (आ २३) । देखो वचा ।
वया छी [वयजा] १ मार्ग-विशेष, ऊष को
खोचने के लिए रज्जुवद्ध घट आदि डालने
का मार्ग । २ प्रेरण दण्ड (आ २३) ।
वर सक [वृ] १ सगाई करना, सबन्ध करना ।
२ आच्छादन करना, ढकना । ३ याचना
करना । ४ सेवा करना । वरइ (हे ४, २३४,
सुज १६, प्राप्र, षड्), 'वर वरेहि' (कुप्र
८०), 'वरं वरमु इच्छिअ' (आ १२) ।
भवि वरिस्सइ (सिरि ८१६) । क वरणीअ
(पउम २८, १०४) ।
वर सक [वरय] १ प्राप्त करने की इच्छा
करना । २ सञ्चर करना । वरइ, वरयति
(भवि, सुज ७), 'के सूरिय वरयते' (सुज
१, १) । वक वरित (सुज ७) ।
वर पु [वर] १ पति, स्वामी, दुलहा (स ७८,
स्वप्न ४१, गा ४०४, ४७६, भवि) । २
वरदान, देव आदि का प्रसाद (कुमा, आ
१२, २७, कुप्र ८०, भवि) । ३ वि श्रेष्ठ,
उत्तम (कप्प, महा, कुमा, प्रासू ५२, १७५) ।
४ अभीष्ट (आ १२, कुप्र ८०) । ५ न. कुछ
अभीष्ट, अच्छा, 'वर मे अण्णा दतो' (उत्त
१, १६, प्रासू २२, ३८, १०६) । °दत्त पु
[°दत्त] १ भगवान् नेमिनाथजी का प्रथम
शिष्य (सम १५२, कप्प) । २ एक राज-
कुमार (विपा २, १, १०) । °दाम न
[दामन्] एक तीर्थ (ठा ३, १—पत्र १२२,
इक, सण) । °धणु पु [धणुप] एक
मन्त्रिकुमार, गृहदत्त चक्रवर्ती का बाल-

मित्र (महा) । °पुरिस पुं [°पुरुष] वासुदेव
(पएण १७—पत्र ५२६, राय, आवम,
जीव ३) । °माल पु [°माल] एक देव-
विमान (देवेन्द्र १३३) । °माला छी [°माला]
वर को पहनायी जाती माला, वरत्व-सूचक
माला (कुप्र ४०७) । °रुइ पु [°रुचि]
राजा नन्द के समय का एक विद्वान् ग्राहण
(कुप्र ४४७) । °वरिया छी [°वरिका]
अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए की जाती घोषणा,
ईप्सित वस्तु के दान देने की घोषणा (याया
१, ८—पत्र १५१, आवम, स ४०१, सुर
१६, १८, सुपा ७२) । °सरक न [°सरक]
खाद्य-विशेष (पएह २, ५—पत्र १४८) ।
°सिद्ध पुन [°शिष्ट] यम लोकपाल का एक
विमान (भग ३, ७—पत्र १६७, देवेन्द्र
२७०) ।
वर देखो वार । °विलया छी [°वनिता]
वेश्या (कुमा) । °वर देखो पर, 'जीवाणम-
भयदाणं जो देइ दयावरो नरो निच्च' (कुप्र
१८२) ।
वरइअ वि [दे] धान्य-विशेष (दे ७, ४६) ।
वरइत्त पु [दे वरयित्] अभिनव वर, दुलहा
(दे ७, ४४, षड्; भवि) ।
वरई देखो वरय = वराक ।
वरउप्प वि [दे] मृत (दे ७, ४७) ।
वर देखो पर = परम, 'अदो वर विरुद्धमहाण
इत्थ अवत्थाण' (मोह ६२, स्वप्न २०६) ।
वरंड पु [वरण्ड] १ दीर्घ काष्ठ, लम्बी लकड़ी ।
२ मिति, भीत (सुच्छ ६) ।
वरड पु [दे] १ तृण-पुञ्ज, तृण सचय
(चाप ३) । २ प्राकार, किला (दे ७, ८६,
षड्) । ३ कपोतपाली, गाल पर लगाई
जाती कस्तूरी आदि का छत्र (दे ७, ८६) ।
४ समूह (गा ६३०) ।
वरडिया छी [दे] छोटा वरडा, बरामदा,
दालान (सुपा २०३) ।
वरक्ख न [वराख्य] गन्ध-द्रव्य विशेष,
सिक्क (से ६, ४४) ।
वरक्ख पु [वराक्ष] १ योगी । २ यक्ष । ३
वि श्रेष्ठ इन्द्रियवाला (से ६, ४४) ।
वरक्खा छी [वराख्या] त्रिकला (से ६,
४४) ।

वड्सस वि [द्वेष्य] अप्रीतिकर (उत्त ३२, १०३) ।

वड्ससदेव पुं [वैश्वदेव] वैश्वानर, अग्नि (निर ३, १) ।

वड्ससाणर पु [वैश्वानर] ? वहि, अग्नि ।
३ चित्रक वृक्ष । ३ सामवेद का अवयव-
विशेष (हे १, १५१) ।

वई देखो वइ = वाच् (आचा) । °मय वि
[°मय] वचनात्मक (सस ६, ३, ६) ।

वईअ वि [व्यतीत] अतीत, गुजरा हुआ ।
°सोग पुं [°शोक] एक जैन मुनि (पउम
२०, २०) ।

वईवय सक [व्यति + व्रज्] जाना, गमन
करना । वक्र 'कोल्लायस्स सनिवेसस्स अदूर-
सामतेण वईवयमाणे बहुजणसद् निसामेइ
(उवा) ।

वईवाय देखो वइवाय (राज) ।

वच पुं [दे] लावण्य, शरीर-कान्ति, 'वक्र
अ लायण्ये' (दे ७, ३०) ।

वच न [वपुष्] शरीर, देह (राज) ।

वचलिअ वि [दे] शूल-प्रोत (दे ७, ४४) ।

वएमाण देखो वय = वद् ।

वओ देखो वय = वचस (आचा) । °मय न
[°मय] वाङ्मय, शास्त्र (विसे ५५१) ।

वओ देखो वय = वयस (पउम ४८, ११५) ।

वओवउपु पुं [दे] विषुवत्, समान
वओवउथ } रात और दिनवाला काल (दे
७, ५०) ।

व° देखो वाया = वाच् । °नियम पु [°नियम]
वाणी की मर्यादा (उप ७२८ टी) ।

वक वि [वङ्क, वक्र] ? बाँका, टेढ़ा, कुटिल
(कुमा, सुपा १७२, पि ७४) । २ नदी का
बाँक (हे १, २६, प्राप्र) ।

वक पु [दे] कलक, वाग (दे ७, ३०) ।

°वक देखो पक (से ६, २६, गउड) ।

वकचूल पु [वङ्कचूल] एक प्रसिद्ध राज-कुमार
(धर्मवि ५२, पडि) ।

वकचूलि पु [वङ्कचूलि] ऊपर देखो, तम्रो
गया बकचूलिणी गेहे' (धर्मवि ५३, ५६,
६०) ।

वक्रण न [वङ्कन, वक्रण] बक्रीकरण, कुटिल
बनाना (ठा २, १—पत्र ४०) ।

वकिअ वि [वक्रित] बाँका किया हुआ (से
६, ५६) ।

°वकिअ वि [पङ्कित] पक-युक्त (से ६, ५६) ।
वकिम पुं [वक्रिमन्] वक्रता, कुटिलता
(पि ७४, हे ४, ३४४, ४०१) ।

वकुड } देखो वक = वक, 'विविहविसविड-
वकुण } विनिगयवकुडतिकखगकटइए। एया-
रिसम्मि य वणे' (स २५६, हे ४, ४१८,
भवि, पि ७४) ।

वकुभ (शौ) ऊपर देखो (प्राक् ६७) ।

वग न [दे] वृन्ताक, भटा (दे ७, २६) ।

वग वि [व्यङ्ग] विकृत अग, 'ववगय-
वलीपलियवगदुव्वन्नवाधिवोह्मगसोयमुक्काओ'
(पएह १, ४—पत्र ७६) ।

वगच्छ पु [दे] प्रमथ, शिव का अनुचर-विशेष
(दे ७, ३६) ।

वगण न [व्यङ्गन] क्षत (राज) ।

वगिय वि [व्यङ्गित] विकृत शरीरवाला
(राज) ।

वगोवडु पु [दे] सूकर, सूअर (दे ७, ४२) ।

वच सक [वञ्च्] ठगना । वचइ (हे ४,
६३, पड, महा) । कर्म वचिज्जइ (भवि) ।

सक वचिऊण (महा) । क वचणीअ
(प्राप्र) । प्रयो, वक्र 'तो सो वचविंतो
कुमरपहार वएइ पुरवाहि' (सुपा ५७२) ।

वच (अप) देखो वच्च = वच् । वचइ (प्राक्
११६) । सक वचिवि (भवि) ।

वच सक [उद् + नमय्] ऊँचा उठाना ।
वचइ (?) (घात्वा १५१) ।

वच वि [वञ्च्] ठगनेवाला, घुर्त, 'कुडिलत्तण
च वकत्तण च वचत्तण असन्च च' (वज्जा
११६, हे ४, ४१२) ।

वचअ } वि [वञ्चक] ऊपर देखो (नाठ—
वचग } मालवि; आ २८) ।

वचण न [वञ्चन] ? प्रतारण, ठगई (सम्मत्त
२१७) । २ वि ठगनेवाला, ठग (सबोध
४१) । °चण वि [°चण] ठगने में चतुर
(सम्मत्त २१७) ।

वचणा जी [वञ्चना] प्रतारणा (उव, कप्प) ।

वचिअ वि [वञ्चित] ? प्रतारित (पाम) ।
२ रहित, वजित (गउड) ।

वच्छा जी [वाञ्छा] इच्छा, चाह (सुपा
४०४) ।

वज सक [वि + अञ्ज] व्यक्त करना,
प्रकट करना । कर्म, वजिजइ (विसे १६४,
४६३, धर्मस ५३) ।

वज देखो वच = उद् + नमय् । वजइ (?)
(घात्वा १५१) ।

वज देखो वद = वन्द् ।

वजग देखो वजय (राज) ।

वजण न [व्यञ्जन] ? वराँ, अक्षर, 'अणमखर
होच्च वजणमखरओ' (विसे १७०), 'तो
नत्थि अत्यमेओ वजणएयणा पर मिना'
(वेइय ८६६) । २ स्वर-भिन्न अक्षर का वे
ह तक वराँ (विसे ४६१, ४६२) । ३ शब्द,
पद, 'सो पुण समासओ चिअ वजणनिअओ
य अत्यनिअओ अ' (सम्म ३०, सूअनि ६,
पडि, विसे १७०) । ४ तरकारी, कबी आदि
रस व्यञ्जक वस्तु (सुपा ६२३, औष ३५६) ।

५ शुक, बीय (विसे २२८) । ६ शरीर का
मसा आदि चिह्न (पत्र २५७, औष) । ७ मसा
आदि शरीर चिह्न के फल का उपदेशक शाब्द
(सम ४६) । ८ कक्षा आदि के बाल (राज) ।

९ प्रकाशन, व्यक्तीकरण (विसे ४६१) ।
१० श्रोत्रादि इन्द्रिय । ११ शब्द आदि द्रव्य ।
१२ द्रव्य और इन्द्रिय का सञ्च (एदि, विसे
२५०) । °वगह, °गह पु [°वग्रह]

ज्ञान-विशेष, चतु और मन को छोट कर
अन्य इन्द्रियो से होनेवाला ज्ञान-विशेष (कम्म
१, ४, ठा २, १) ।

वजय वि [व्यञ्जक] व्यक्त करनेवाला (भास
२६) ।

वजर पु [माज्जार] विल्ला, विलार (हे २,
१३२, कुमा) ।

वजर न [दे] नीबी, कटी-वक्र (दे ७, ४१) ।

वजिअ वि [व्यञ्जित] व्यक्त किया हुआ,
प्रकटित (कुमा १, १८, २, ६६) ।

वंजुल पु [वञ्जुल] ? अशोक वृक्ष (गा
४२२, स १११) । २ वेतस वृक्ष (पाम)
'वजुलसणेण विस व पन्गो मुयइ सो वार'
(धम्म ११ टी, वज्जा ६६, उप ७२८ टी) ।
३ पति-विशेष (पएह १, १—पत्र ८) ।

३—पत्र ३४८)। १३ पुं. व, एक ग्रयं-
देश (पत्र २७५)। १४ इय पु [°कायिक]
वरुण लोकपाल के भृत्य-स्थानीय देवों की एक
जाति (भग ३, ७—पत्र १९९)। १५ देवकाइय
पु [°देवनायिक] वही ग्रयं (भग ३, ७)।
१६ पभ पु [°प्रभ] १ वरुणवर द्वीप का
एक अधिष्ठायक देव (जीव ३—पत्र
३६८)। २ वरुण लोकपाल का उत्पात-
पर्वत (ठा १०—पत्र ४८२)। १७ पभमा स्त्री
[°प्रभा] वरुणप्रभ पर्वत की दक्षिण दिशा
में स्थित वरुण लोकपाल की एक राजधानी
(दीव)। १८ वर पु [°वर] एक द्वीप का नाम
(जीव २—पत्र ३४८, मुज्ज १९)।

चरुणा स्त्री [चरुणा] १ अञ्चल देश की प्राचीन
राजधानी (पत्र २७५)। २ वरुणप्रभ पर्वत
की पूर्व दिशा में स्थित वरुण नामक लोक-
पाल की एक राजधानी (दीव)। ३ एक राज-
पत्नी (पत्र ७, ४४)।

चरुणी स्त्री [चरुणी] विद्या विशेष (पत्र ७,
१४०)।

चरुणोअ } पु [चरुणोद] एक समुद्र (ठा
चरुणोद } पत्र ४०५, इक, मुज्ज १९)।

चरुल पु व [चरुल] देश-विशेष (पत्र ६८,
६४)।

चरुहिणी स्त्री [चरुहिणी] सेना, सैन्य
(पात्र)।

चरेदत्थ न [दे] फल (दे ७, ४७)।

चल अक [जल] १ लौटना, वापस आना।
२ मुठना, टेडा होना, गुजराती में 'बलुबु'।
३ उत्पन्न होना। ४ सक ढकना। ५ जाना,
गमन करना। ६ सावना। चलइ (हे ४,
१७२, पड, गा ४४९, घात्वा १५२)।
नरि वीरिण (महा)। बक, चलत, चलय,
नलय, नलमाण (हे ४, ४२२, गा २५,
ने ५, ८०, ५, ४२, शोप, ठा २, ४, पत्र
१५७)। बक चलिज्जत (से ४, २६)।
संठ मलिऊण (काल)। हेरु वलिउ (गा
८८६, पि ५०६)। क वलियञ्च (महा,
गुना ६०१)।

चरुण [आ + रोपय्] ऊपर चटना।
पात्र २१, २३, दे ७, ८६)।

चल सक [ग्रह] ग्रहण करना। चलइ
(हे ४, २०९, दे ७, ८६)। चलणिज्ज
(कुमा)।

चल पुं [चल] रस्ती आदि को मजबूत करने
के लिए दिया जाता चल (उत्त २६, २५)।
चलअगी स्त्री [दे] वृत्तिवाली, बाडवाली (दे
७, ४३)।

चलइय वि [चलयित] १ वलय—कगन की
तरह गोलाकार किया हुआ, वलय की तरह
मुडा हुआ (पत्र २८, १२४, कप्पु)। २ वेष्टित
(कप्पु)।

चलगणिया स्त्री [दे] बाडवाली (दे ७,
४३)।

चलक्किअ वि [दे] उत्सगित, उत्सग-स्थित
(पड १८३)।

चलक्ख वि [चलक्ख] श्वेत, सफेद (पात्र)।

चलक्ख न [चलाक्ख] आभूषण-विशेष, एक
तरह का गले में पहनने का गहना (श्रीप)।

चलग्ग सक [आ + रुह्] आरोहण करना,
चढ़ना। गुजराती में 'बलगवु'। चलग्गइ
(हे ४, २०६, पड, भवि)।

चलग्ग वि [आरुह] जिसने आरोहण किया
ही वह, चढा हुआ (पात्र)।

चलग्गणणी स्त्री [दे] वृत्ति, बाड (दे ७,
४३)।

चलणिगअ देखो चलग्ग = आरुह (कुमा)।

चलग्ग न [चलग्ग] १ मोडना, वक्र करना
(दे १, ४२)। २ प्रत्यावर्तन, पीछे लौटना
(से ८, ९, गउड)। ३ वाक, वक्रता (हे
४, ४२२)।

चलग्ग (श्री मा) देखो चरण (प्राक ८५, हे
२६३)।

चलग्गणी स्त्री [चलग्ग] देखो चलग्ग = चलन
(गउड)।

चलत्थ वि [दे] पर्यस्त (भवि)।

चलमय न [दे] शीघ्र, जल्दी, 'वच चलमय
तत्थ' (दे ७, ४८)।

चलय पुन [चलय] १ ककण, कडा (श्रीप,
गा १३३, कप्पु, हे ४, ३५२)। २ धृषिबी-
वेष्टन, घनवात आदि (ठा २, ४—पत्र
८६)। ३ वेष्टन, वेष्टन। ४ वतुल, गोलाकार
(गउड, कप्पु, ठा ५, १)। ५ नदी आदि के

के बाँक से वेष्टित भू-भाग (सूत्र २, २, ८,
भग)। ६ माया, प्रवच (सूत्र १, १२, २२,
सम ७१)। ७ अस्तय वचन, मुषा, झूठ (परह
१, २—पत्र २६)। ८ वलयकार वृक्ष, नारि-
केल, नारियल आदि (परह १, उत्त ३६, ६६,
मुख ३६, ६६)। ९ आर, १० अ पु [°कार,
°कारक] कंकण बनानेवाला शिल्पी (दे ७, ५४)।

चलय वि [चलक] मोडनेवाला, 'खगलग-गल-
चलया' (पिड ३१४)।

चलय न [दे] १ क्षेत्र, खेत। २ गृह, घर
(दे ७, ८४)।

चलय देखो चल = बल्। १ मयग वि [°मृतक]
१ समय से भ्रष्ट होकर जिसका मरण हुआ
हो वह। २ भूख आदि से तबफता हुआ जो
मरा हो वह (श्रीप)। ३ मरण न [°मरण]
समय से च्युत होनेवाले का मरण (भग
२, १)।

चलयणी स्त्री [दे] वृत्ति, बाड (दे ७, ४३)।

चलयवाहा } स्त्री [दे] १ दीर्घ काष्ठ, जिसपर
चलयवाहु } च्चजा आदि बाँधा जाता है
वह लम्बा काष्ठ, 'संसारियासु चलयवाहासु
कसिएसु सिएसु भयग्गेषु' (गाया १, ८—पत्र
१३३)। २ हाथ का एक आभूषण, चूडा,
कडा (दे ७, ५२, पात्र)।

चलया देखो चडवा। १ णल पु [°नल] वड-
वागिन (हे १, १७७, षड्)। २ मुह न
[°मुख] १ वडवानल (हे १, २०२, प्राक,
पि २४०)। २ पुं एक वडा पाताल-कलश
(ठा ४, २—पत्र २२६, टी—पत्र २२८,
सम ७१)।

चलया स्त्री [दे] वेला, समुद्र-कूल। १ मुह न
[°मुख] वेला का अग्र भाग,
'ति बलागमुहमुक्को, तिक्खुत्तो चलयामुहे।
ति सत्तक्खुत्तो जालेण, सइ छिन्नोवपे वहे ॥
एयारिस मम सत्त, सडं वडियवट्टण।
इच्छसि गलेण वेत्तुं, अहो ते अहिरीयया ॥
(पिड ६३२, ६३३)।

चलयाइअ वि [चलयायित] जो वलय की
तरह गोल हुआ हो वह (कुमा)।

चलवाट्टि [दे] देखो चलवाट्टि (दे ६, ९१)।

चलग्ग देखो चडवा, 'गोमहिसिचलयपुण्णो'
(पत्र २, २, दे ७, ४१, इक, पि २४०)।

वसा स्त्री [वशा] द्वितीय नरक-पृथिवी (ठा ७—पत्र ३८८, इक)।

वसि° देखो वसी = वश (कम्म १, २०)।

वसिअ वि [वाशिक] वश वाद्य बजानेवाला (हे १, ७०, कुमा)।

वसिअ वि [व्यसित] छलित, प्रतारित (राज)।

वसी स्त्री [वाशी] १ मुरा-विशेष (बृह २)।

२ वसि की जाली (ठा ३, १—पत्र १२१)।

°कलमा स्त्री [°कलङ्का] वसि की जाली की बनी हुई बाइ (विपा १, ३—पत्र ३८)।

°पत्तिया स्त्री [°पत्त्रिमा] योनि-विशेष, वशजाली के पत्र के आकार की योनि (ठा ३, १)।

वसी स्त्री [वशी] वाद्य-विशेष, मुरली (बृह २)।

°गहिया स्त्री [°नखिका] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३८)।

°मुख पु [°मुख] द्विन्द्रिय जीव-विशेष (जीव १ टी—पत्र ३१)।

वसी स्त्री [वश] वसि। °मूल न [°मूल]

वासि की जड़ (कस)।

वसी स्त्री [दे] मस्तक पर स्थित माला (दे ७, ३०)।

वक्क न [वाक्य] पद-समुदाय, शब्द-समूह (उव, उप ८३३, ८५६)।

वक्क न [वलक] त्वचा, छाल (उप ८३६, श्रौप)। °वघ पु [°वन्ध] वल्क-बन्धन (विपा १, ८)।

वक्क देखो वक = वक (गाया १, ८—पत्र १३३, स ६११, घर्मसँ ३४८, ३४६)।

वक्क न [वमत्र] मुख, मुँह (पउम १११, १७, गा १६४)।

वक्क न [दे] पिष्ट, पिसान, आटा (पड्)।

वक्कत पुन [वक्कन्त] प्रथम नरक-भूमि का दसवाँ नरकेन्द्रक—नरकावास-विशेष (वेनेन्द्र ५)।

वक्कत वि [अवक्कान्त] उत्पन्न (कप्प, पि १४२)।

वक्कति स्त्री [अवक्कान्ति] उत्पत्ति (कप्प, सम २, भग)।

वक्कड न [दे] १ बुद्धि। २ निरन्तर वृष्टि (दे ७, ३५)।

वक्कडवध न [दे] कण्ठभरण, कान का आभूषण (दे ७, ५१)।

वक्कम अक [अव + क्रम्] उत्पन्न होना।

वक्कमइ (भग, कप्प)। भूका, वक्कमिमु (कप्प)।

भवि वक्कमिस्सति (कप्प)। वक्क वक्कममाण (भग, गाया १, १—पत्र २०)।

वक्कर (अप) देखो वक्क = वक (भवि)।

वक्कल न [वलकल] वृक्ष की छाल (प्राप्र, सुपा २५२, हे ४, ३४१, ४११, प्रति ५)।

°चीरि पु [°चीरिन्] एक महाधि, जो राजा प्रयत्नचन्द्र के छोटे भाई थे (कुप्र २८६)।

वक्कलि) वि [वलकलिन्] वृक्ष की छाल
वक्कलिण) पहननेवाला (तापस), (कुमा, भत्त १००, सबोध २१, पउम ३६, ८४)।

वक्कलय वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया हुआ (दे ७, ४६)।

वक्कस न [दे] १ पुरातन घान का चावल। २ पुरातन सक्तु-पिण्ड। ३ बहुत दिनों का वासी गोरस। ४ गेहूँ का माड (आचा १, ६, ४, १३)।

वक्किद (शौ) देखो वकिअ (पि ७४)।

वन्ख देखो वच्छ = वृक्ष (वड, उप ८८५)।

वक्ख देखो वच्छ = वक्षस् (सत्ति १५, प्राक्क २२, नाट—मुच्छ १३३)।

°वक्ख देखो पक्ख (गा ४४२, से ३, ४२, ४, २३, स ६५१)।

वक्खमाण देखो वय = व।

वक्खल वि [दे] आच्छादित, ढका हुआ (षड्)।

वक्खला सक [व्या + ख्या] १ विवरण करना। २ कहना। क्व वक्खेय (विसे १३७०)।

वक्खला स्त्री [व्याख्या] विवरण, विशद रूप से अर्थ प्रलपण (विसे ६६४)।

वक्खलाण न [व्याख्यान] १ ऊपर देखो (विद्य २७१, विसे ६६५)। २ कथन (हे २, ६०)।

वक्खलाण सक [व्याख्यानय] १ विवरण करना। २ कहना। वक्खलाणइ (भवि)।

भवि वक्खलाणइस्स (शौ) (पि २७६)। कर्म वक्खलाणइइ (विसे ६८४)। वक्क वक्खलाणयत (उवर ६८, रयण २१)।

सक्क वक्कलाणोउ (विसे ११)। क्व वक्कलाणे-अन्व (राज)।

वक्खलाणि वि [व्याख्यानिन्] व्याख्यान-कर्ता (घर्मस १२६१)।

वक्खलाणिय वि [व्याख्यानित] व्याख्यात (विसे १०८७)।

वक्खलाणीअ (अप) ऊपर देखो (पिग ५०६)।

वक्खलाय वि [व्याख्यात] १ विवृत, वरिष्ठ (स १३२, वेद्य ७७१)। २ पु मोक्ष, मुक्ति (आचा १, ५, ६, ८)।

वक्खार पु [दे] बखार, अन्न आदि रखने का मकान, गोदाम (उप १०३१ टी)।

वक्खार पु [वक्षार, वक्षस्कार] १ पवत-विशेष, गज-दन्त के आकार का पर्वत (सम १०१, इक)। २ भू-भाग, भू-प्रदेश (पउम २, ५४, ५५, ५६, ५८)।

वक्खारय न [दे] १ रति-गृह। २ अन्न पुर (दे ७, ४५)।

वक्खाय सक [व्या + ख्यापय] व्याख्यान करना। वक्खावइ (प्राक्क ६१)।

वक्खिखत्त वि [व्याक्षिप्त] १ व्यग्र, व्याकुल (श्रौप १३, कुप्र २७)। २ किसी कार्य में व्याप्त (पव २)।

वक्खेय देखो वक्खला = व्या + ख्या।

वक्खेय पु [व्याक्षेप] १ व्यग्रता, व्याकुलता (उवा, उप १३६ टी, १४०)। २ कार्य-बाह्य (सुल ३, १)।

वक्खेय पु [अवक्षेप] प्रतिषेध, सएडन (गा २४२ अ)।

वक्खो° देखो वच्छ = वक्षस्। °रुइ पु [°रुइ] स्तन, थन (सुपा ३८६)।

वम्नु (शौ) देखो वरु = वक्क (प्राक्क ६७)।

वग्गाग (अप) देखो वक्कसाण = व्याख्यानय। बलाण (पिग)।

वग्गाणिअ (अप) देखो वक्कसाणिय (पिग)।

वग्गा स्त्री [दे] बाइ, परिक्षेप (कस, वव ६)।

वग्ग सक [वग्ग] १ जाना, गति करना। २ कूटना। ३ बहु-भाषण करना। ४ अभिमान-सूचक शब्द करना, सूँसारना।

वग्गइ (भवि, सएण पि २६६), वग्गति (सुपा २८८)। कर्म वग्गीयदि (शौ) (किरात १७)। वक्क वग्गत (स ३८३, सुपा ४६३, भवि)। सक, वग्गीत्ता (पि २६६)।

वचण न [वचन] बोला (वच १, श्रु ६) ।

वचण छीन [दे] कापसि, तूला, रूई, 'पलही वचए तूलो ल्वो' (पाम्म) । छी 'णी (दे ६, ८, ७, ३२) ।

वचत्थभ पु [दे] बल, पराक्रम (दे ७, ४६) ।

वचत्था छी [व्यवस्था] १ मर्यादा, स्थिति (स १३, कुप्र ११४) । २ प्रक्रिया, रीति । ३ इतजाम, प्रवन्व (सुपा ४१) । ४ निर्णय (स १३) । 'पत्तय न [पत्रक] दस्तावेज (स ४१०) ।

वचत्थावण न [व्यवस्थापन] व्यवस्था करना, 'जीववत्थावणादिणा' (धर्मस ५२०) ।

वचत्थावणा न [व्यवस्थापना] ऊपर देखो (धर्मस ५२०) ।

वचत्थिअ वि [व्यवस्थित] व्यवस्था युक्त (स ४६, ७२७, सुर ७, २०५, सण) ।

वचत्थिअ नि [व्यवस्थित] जिसने व्यवस्था की हो वह (दसनि ४, ३५) ।

वचवेस दलो वचएस (उवा, स्वप्न १३२) ।

वचवेसि वि [व्यपदेशिन्] व्यपदेश करने-वाला (नाट—शकु ६६) ।

वचवाण न [व्यवधान] अन्तर, दो पदार्थों के बीच का अन्तर (अभि २२२) ।

वचरोव सन् [व्यप + रोपय] विनाश करना, मार डालना । वचरोवेसि, वचरोवेजसि, वचरोवेजजा (उवा) । कर्म वचरोविजजसि (उवा) । सङ्ग वचरोवित्ता (उवा) ।

वचरोवग न [व्यपरोपण] विनाश, हिंसा (सण) ।

वचरोविअ नि [व्यपरोपित] विनाशित, मार गना गया, 'जीविमाओ वचरोविअ' (पटि) ।

वचस त्ठ [वच + सो] ? करना । २ करने की श्रद्धा करना । वचसइ (राय १०८) ।

वचस सत्त [वच + सो] १ प्रयत्न करना, भटा करना । २ निर्णय करना । वचसइ (स २०२) । चट वचसत्त, वचसमाण (सुगा २३८, न ५६२) । सङ्ग वचसिऊण

(सुपा ३३६) । कवक्क वचसिज्जमाण (पउम ५७, ३६) । हेक्क वचसिदु (शौ) (नाट—शकु ७१) ।

वचसाय पुं [व्यवसाय] १ निर्णय, निश्चय । २ अनुष्ठान (ठा ३, ३—पत्र १५१, एदि) । ३ उद्यम, प्रयत्न (से ३, १४, सुपा ३५२, स ६८३, हे ४, ३८५, ४२२, कुप्र २६) । ४ व्यापार, कार्य, काम (भौप, राय) ।

वचसायसभा छी [व्यवसायसभा] कार्य करने का स्थान, कार्यालय (राय १०४) ।

वचसिअ न [दे] बलात्कार (दे ७, ४२) ।

वचसिअ } वि [व्यवसित] १ उद्यत, व्यवसित्थ } उद्यम-युक्त, 'सेण्णो नाम राया पयासुहे सुहं वचसिओ' (वसु, उत्त २२, ३०, उव) । २ त्यक्त, 'अवि जीविय वचसिय न चैव शुक्परिमवो सहिओ' (उव) । ३ निश्चयवाला । ४ पराक्रमी (ठा ४, १—पत्र १७६) । ५ न व्यवसाय, कर्म (एयाया १, १—पत्र ५०) । ६ चैष्टित (स ७५६) । ७ उद्यम, प्रयत्न (से ३, २२) ।

वचहर सक [व्यव + ह] १ व्यापार करना । २ अक. वर्तना, आचरण करना । वचहरई, वचहरए (उत्त १७, १८, स १०८, विसे २२१२) । वक्क वचहरत्त, वचहरमाण (उत्त २१, २, ३, भग ८, ८, सुपा १५, ४४६) । हेक्क वचहरिउं (स १०५) । क वचहरणिज्ज, वचहरियव्व (उप २११ टी, वव १, सुपा ५८५) ।

वचहरग वि [व्यवहारक] व्यापार करने-वाला, व्यापारी (कुप्र २२४) ।

वचहरण न [व्यवहरण] व्यवहार (एयाया १, ८—१३५, स ५८५, उप ५३० टी, सुपा ४६५, विसे २२१२) ।

वचहरय देखो वचहरग (सुपा ५७८) ।

वचहरियव्व देखो वचहर ।

वचहार पु [व्यवहार] १ वर्तन, आचरण (वव १, भग ८, ८, विसे २२१२, ठा ५, २, पव १२६) । २ व्यापार, धन्वा, रोजगार (सुपा ३३४) । ३ नय-विशेष, वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टिकोण (विने २२१२, ठा ७—पत्र ३६०) । ४ मुमुक्षु की श्रुति निवृत्ति का कारण-भूत ज्ञान विशेष (भग ८, ८—पत्र

३८३, वव १, पव १२६, द्र ४६) । ५ जैन आगम-ग्रथ विशेष (वव १) । ६ दोष के नाशार्थ किया जाता प्रायश्चित्त, 'आयारे वचहारे पन्ती चैव दिट्ठिवाए य' (दसनि ३) । ७ विवाद, मामला, मुकद्दमा, 'वचहार-वियारणं कुणइ' (पउम १०५, १००, स ४६०, चेइय ५६०, उप ५६७ टी) । ८ विवाद-निर्णय, फैसला, चुकावा (उप पृ २८३) । ९ व्यवस्था (सुप्र २, ५, ३) । १० काम काज (विसे २२१२, २२१४) । ११ जीवराशि-विशेष (सक्खा ६) । १२ व वि [वत्] व्यवहार-युक्त (द्र ४६) । १३ रासिय वि [राशिक] जीवराशि-विशेष मे स्थित (सिक्खा ६) ।

वचहार पु [व्यवहार] १ पूर्व-ग्रथ । २ जीतकल्प सूत्र । ३ कल्पसूत्र । ४ मार्ग, रास्ता । ५ आचरण । ६ ईप्सितव्य (वव १) ।

वचहारि पुं [व्यवहारिन्] १ ऐरवत क्षेत्र मे उत्पन्न एक जिन-देव (सम १५३) । २ वि व्यापारी, वणिक् (मोह ६४, आ १४, सुपा ३३४) । ३ व्यवहार-क्रिया-प्रवर्तक (वव १) ।

वचहारिअ वि [व्यावहारिक] व्यवहार-सम्बन्धी (श्रीध २८१, अणु) ।

वचहिअ वि [व्यवहित] व्यवधान-युक्त (अणु, आचम) ।

वचहिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४१) ।

वचॉल देखो वमाल (सण) ।

वचिअ वि [उत्त] बोया हुआ (उप ७२८ टी, प्रासू ६) ।

वचिज्जत देखो वव ।

वचेअ वि [व्यपेत] व्यपगत (सुप्र २, १, ४७) ।

वचेक्खा छी [व्यपेक्षा] विशेष अपेक्षा, परवाह (धर्मस ११६७) ।

वचय्य पुं [वचयज] तुण-विशेष, 'भूययवक्क (? च) यपुप्फकल—' (पणह २, ३—पत्र १२३, कस २, ३०) ।

वचर वि [वचर] १ पामर । २ मूर्ख (कुमा) ।

वच्चा^० देखो वचय्य (कस २, ३०) ।

वच्चाड पु [दे] अर्थ, धन (दे ७, ३६) ।

वञ्जसि वि [वचस्विन्] प्रशस्त वचनवाला (गणया १, १—पत्र ६)।

वञ्जसि वि [वर्चस्विन्] तेजस्वी (गणया १, १, सम १५२, औप, पि ७४)।

वञ्जय पु [वज्रत्यय] विपर्यास, उलट-पुलट (उपपु २६६, पत्र १०४)। देखो वत्तज।

वञ्जरा (अप) देखो वचा (भवि)।

वञ्ज । देखो वय = वच्।

वञ्जामेलिय देखो विञ्जामेलिय (विसे १४८२)।

वञ्जास पु [व्यत्यास] विपर्यास, विपर्यय (भोष २७१, कम्म ५, ८६)।

वञ्जासिय वि [व्यत्यासित] उलटा क्रिया हुआ (विसे ८५३)।

वञ्जीसग पु [वञ्जीसक] वाद्य-विशेष (अनु)।

वञ्जो देखो वञ्ज = वचस् (सुर ६, २८)।

वञ्ज न [दे] पार्वं, समीप (दे ७, ३०)।

वञ्ज पुन [वक्षस्] छाती, सीना (हे २ १७, सक्षि १५, प्राप्र, गा १५१, कुमा)।
 *स्थल न [स्थल] उर-स्थल, छाती (कुमा, महा)।
 *सुत्त न [सूत्र] आभूषण-विशेष, वक्ष स्थल में पहनने की सँकली—सिकडी या सिकरी (भग ६, ३३ टी—पत्र ४७७)।

वञ्ज पुं [वृक्ष] पेड़, शाकी, डुम (प्राप्र, कुमा, हे २, १७, पाप्र)।

वञ्ज पु [वत्स] १ वज्रडा (सुर २, ६५, पाप्र)। २ शिशु, वच्चा। ३ वत्सर, वर्ष। ४ वक्ष स्थल, छाती (प्राप्र)। ५ ज्योतिषशास्त्र-प्रसिद्ध एक चक्र (गण १६)। ६ देश-विशेष (तो १०)। ७ विजय-क्षेत्र-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०)। ८ न गोत्र-विशेष। ९ वि उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०, कप्प)। *दूर पुत्री [तर] शुद्ध वत्स। २ दमनीय वज्रडा प्रादि। स्त्री। *री (प्राक्र २३)। *मिन्ता स्त्री [मित्रा] १ अधोलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७, इक)। २ ऊर्ध्वलोक में रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (इक, राज)। *थर देखो *दूर (दे २, ६, ७, ३७)। *राय पुं [राज] एक राजा (वी १०)। *वाल पुत्री [पाल] गोप, ग्वाला (पाम)। स्त्री। *ली (भावम)।

वञ्ज वि [वात्स्य] वात्स्य गोत्र का (एदि ४८)।

वञ्जगावई स्त्री [वत्सकावती] एक विजय-क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०, इक)।

वञ्जदर पुन [वत्सर] साल, वर्ष (प्राप्र, सिरि ६३५)।

वञ्जल वि [वत्सल] स्नेही, स्नेह-भुक्त (गा ३, कुमा, सुर ६, १३७)।

वञ्जल न [वात्सल्य] स्नेह, मनुराग, प्रेम (कुमा, पडि)।

वञ्जला स्त्री [वत्सा] १ विजय-क्षेत्र विशेष। २ एक नगरी (इक)। ३ लडकी (कप्प)।

वञ्जला पु [उक्षन्] बैल, बलीवदं, 'उक्खा वसहा य वञ्जला' (पाप्र)।

वञ्जलावई स्त्री [वत्सावती] विजय-क्षेत्र विशेष (ज ४)।

वञ्जि देखो वय = वच्।

वञ्जिउड पु [दे] गर्माश्रय (दे ७, ४४ टी)।

वञ्जिम पुत्री [वृक्षत्य] वृक्षपन (वड्)।

वञ्जिमय पु [दे] गर्भ शय्या (दे ७, ४४)।

वञ्जीउत्त पु [दे] नापित, हजाम (दे ७, ४७, पाप्र, स ७५)।

वञ्जीव पु [दे] गोप, ग्वाला (दे ७, ४१, पाप्र)।

वञ्जुल्लिअ वि [दे] प्रयुद्धत (वड्)।

वञ्जोम न [वक्षोम] नगर-विशेष, कुन्तल देश की प्राचीन राजधानी (कप्प)।

वञ्जोमी स्त्री [दे] काव्य की एक रीति (कप्प)।

वञ्ज अक [त्रस्] डरना। वण्जइ, वण्जए (हे ४, १६८, प्राक्र ७५, घात्वा १५१)।

वञ्ज देखो वञ्ज = वच्। वण्जइ (नाट—वृच्छ १६३), वञ्जसि (पि ४८८)।

वञ्ज सक [वर्ज्य] त्याग करना। कवक वञ्जिज्जत (पचा १०, २७)। सक वञ्जिय, वञ्जोवि, वञ्जिऊण, वञ्जोत्ता (महा, काल, पचा १२, ६)। कृ वञ्ज, वञ्जणिज्ज, वञ्जोव्व (पिंड ५६२, भग, परह २, ४, सुपा ४८५, महा, परह १, ४, सुपा ११०, उप १०३७)।

वञ्ज अक [वद्] वजना, वायु भादि की भावाज होना। वण्जइ (हे ४, ४०६, सुपा

३३४)। वक, वज्जत, वज्जमाण (सुर ३, ११५, सुपा ६५६)।

वज्ज न [वाद्य] बाजा, वाक्त्रि (दे ३, ५८, गा ४२०)।

वज्ज वि [वर्ज्य] १ श्रेष्ठ, उत्तम (सुर १०, २)। २ प्रवान, मुख्य (हे २, २४)।

वज्ज वि [वर्ज] १ रहित, वञ्जित, 'अणुवज्ज-वेवयाण न नमइ जो तस्स तणुपुट्ठी' (आ ६), 'सहजनिभोगजवजा पाय न घडति आगारी' (वेइय ४७१), 'लोयववहारवज्जा तुल्ले परमत्यमूढा य' (धर्मवि ८४५, विसे २८४७, श्रावक ३०७, सुर १४, ७८)। २ न. छोडकर, विना, सिवाय (आ ६, ८ १७, कम्म ४, ३४, ५३)। ३ पु हिसा, प्राणि-वच (परह १, १—पत्र ६)।

वज्ज देखो अवज्ज (सुम १, ४, २, १६, वृह १)।

वज्ज देखो वड् = वज (कुमा, सुर ४, १५२, पु ५, हे १, १७७, २, १०५, वड्, कम्म १, ३६, जीवस, ४६, सम २५)। १७ पु-विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १६, १७, ८, १३३)। १८ हिसा, प्राणि-वच (परह १, १—पत्र ६)। १९ कन्द-विशेष (परण १—पत्र ३६, उत्त, ३६, ६६)। २० न कर्म-विशेष, बँधाता हुआ कर्म (सुम २, २, ६५, ठा ४, १—पत्र १६७)। २१ पाप (सुम १, ४, २, १६)। *कठ पु [कण्ठ] वानर-द्वीप का एक राजा (पउम ६, ६०)। *कत न [कान्त] एक देव-विमान (सम २५)। *कद पु [कन्द] एक प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष (आ २०)। *कूड न [कूट] एक देव-विमान (सम २५)। *कल पु [कल] एक विद्याधर वंशीय राजा (पउम ८, १३२)। *चूड पु [चूड] विद्याधर वंश का एक राजा (पउम ५, ४६)। *जघ पु [जङ्घ] विद्याधर-वंशीय एक नरेश (पउम ५, १५)। *गाभ पु [नाभ] भगवान् भ्रमिनन्दन स्वामी के प्रथम गणपर (सम १५२)। देखो *नाभ। *दत्त पु [दत्त] १ विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १५)। २ एक जैन मुनि (पउम २०, १८)। *द्वय पु [ध्वज] एक विद्याधर-

वसियञ्च देखो वस = वस् ।

वसिर वि [वसिर] वास करनेवाला, रहने-वाला (सुपा ६४७, सम्मत २१७) ।

वसाक्य वि [वशाकृत] वश म किया हुआ, अधीन किया हुआ (सुपा ५६०, महा) ।

वसीकरण न [वशीकरण] वश में करने के लिए किया जाता मन्त्र आदि का प्रयोग (खाया १, १४, प्रासू १४, महा) ।

वसीयरणी स्त्री [वशीकरण] वशीकरण-विद्या (सुर १३, ८१) ।

वसीहूअ वि [वशीभूत] जो अधीन हुआ हो वह (उप ६८६ टी) ।

वसु न [वसु] १ घन, द्रव्य (आचा, सूत्र १, १३, १८, कुमा) । २ समय, चारित्र (आचा, सूत्र १, १३, १८) । ३ पु. जिनदेव । ४ वीतराग, राग-रहित । ५ सयत, सयमी, साधु (आचा १, ६, २, १) । ६ आठ की सख्या (विदे १४४, पिंग) । ७ धनिष्ठा नक्षत्र का अविपति देव (ठा २, ३, सुज १०, १२) । ८ एक राजा का नाम (पउम ११, २१, भत्त १०१) । ९ एक चतुर्वरा-पूर्वी जैन महर्षि (विदे २३३४) । १० एक छन्द का नाम (पिंग) । ११ स्त्री. ईशानेन्द्र की एक पटरानी (रुक्) । १२ न लोकात्मिक देवों का एक विमान (इक) । १३ सुवर्ण, सोना (रुप ६८, भग १५, उत १२, ३६) ।

गुप्ता स्त्री [गुप्ता] ईशानेन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६, इक, खाया २—पत्र २५३) । देव पु [देव] नववें तामुदेव श्रोत्रिया और वलदेव का पिता (ठा ६, सम १५२, अत, उत) । नन्द्य पु [नन्द्य] एक तरह की उत्तम तलवार (सुर ३, २२, भवि) । पुल्ल पु [पुल्ल] एक राजा, गगनात्त वसुपुत्र्य का पिता (सम १४१) । वल्ल पु [वल्ल] क्षत्राकु-वरा मे उपत्र एक राजा (पउम ५, ८) । भाग पु [भाग] एक व्यक्ति-वाचक नाम (महा) । भागा स्त्री [भाग] ईशानेन्द्र की एक पटरानी (रुक्) । भूइ पु [भूति] एक जैन मुनि का नाम (पउम २०, १७६, मानम) । भ, भत वि [भत्त] १

द्रव्यवान्, घनी, श्रीमत (सूत्र १, १३, ८, १, १५, ११, आचा) । २ समयी, साधु (सूत्र १, १३, ८, आचा) । मिन्ता स्त्री [मिन्ता] १ ईशानेन्द्र की एक गण-मूर्तिनी (ठा ८—पत्र ४२६, खाया २, इक) । सद् पु [सद्] छन्द-विशेष (पिंग) । हारा स्त्री [हारा] १ आकाश से देव-कृत सुवर्ण-वृष्टि (भग १५, कप ६८, उत १२, ३६, विपा १, १०) । २ एक श्रेष्ठिनी (उप ७२८ टी) ।

वसुआ } अक [उद् + वा] शुष्क होना, वसुआअ } सूखना । वसुआइ, वसुआअइ (हे ४, ११, ३, १४५, प्राक ७४) । वक. वसुअत (कुमा) । प्रयो, कवक वसुआइज्ज-माण (गउड) ।

वसुआअ वि [उद्वात] शुष्क (पात्र, से १, २०, गउड, प्राक ७७) ।

वसुआइअ वि [उद्वापित] शुष्क किया गया, सुखाया गया (से ६, २५) ।

वसुआइज्जमाण देखो वसुआ ।

वसुअर पु [वसुअर] एक जैन मुनि (पउम २०, १६१) ।

वसुअरा स्त्री [वसुअरा] १ पृथिवी, धरती (पात्र, धर्मावि ४१, प्रासू १४२) । २ ईशानेन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ८—पत्र ४२६, खाया २, इक) । ३ चमरेन्द्र के सोम आदि चारो लोकपालों की एक पटरानी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४, इक) । ४ एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६, इक) । ५ नववें चक्रवर्ती राजा की पटरानी (सम १५२) । ६ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, १०) । ७ एक श्रेष्ठि-पत्नी (उप ७२८ टी) । वइ पु [पति] राजा, भूपति (सुपा २८८) ।

वसुवा (श्री) देखो वसुहा (स्वप्न ६८) ।

वसुपुज्ज देखो वासुपुज्ज, 'वसुपुज्जमल्ली नेमी पासो वीरो कुमारपव्वइया' (विचार ११५, पंचा १६, १३, १७), 'वसुपुज्जजिणो जयुत्तमो जाओ' (पव ३५) ।

वसुमइ स्त्री [वसुमती] १ पृथिवी, धरती वसुमई } (उप ७६८ टी, पात्र, सुपा २६०, ४७१) । २ भीम नामक राक्षसेन्द्र की एक

अग्र-महिषी, एक इन्द्राणी (ठा ४, १—पत्र २०४, खाया २—पत्र २५२, इक) । णाह, 'नाह पु [नाथ] राजा (उप ७६८ टी, पउम ७४, २६) । भवण न [भवण] भूमि-गृह, भोधरा (सुख ४, ६) । वइ पु [पति] राजा (पउम ६६, २) ।

वसुल पुस्त्री [दे वृपल] १ निन्दुरता-बोधक आमन्त्रण-शब्द, 'होलि ति वा गोलि ति वा वसुलि ति वा' (आचा २, ४, २, ३), 'तद्देव होले गोलि ति साणे वा वसुलि ति य' (वस ७, १४) । २ गौरव और कुत्सा-बोधक आमन्त्रण शब्द, 'होल वसुल गोल खाह दइय पिय रमण' (खाया १, ६—पत्र १६५) । स्त्री. ली (वस ७, १६, आचा २, ४, २, ३) ।

वसुहा स्त्री [वसुधा] पृथिवी, धरती (पात्र-कुमा) । हिव पु [धिप] राजा (सुपा ८७) ।

वसू स्त्री [वसू] ईशानेन्द्र की एक पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६, इक, खाया २—पत्र २५३) ।

वसेरी स्त्री [दे] गवेपणा, खोज (सुपा ४७३) ।

वस्स (शौ) देखो वरिस । वस्सदि (नाट—मूच्छ १५५) ।

वस्स वि [वश्य] अधीन, आयत्त (विदे ८७५) ।

वस्सोक न [दे] एक प्रकार की क्रीडा, 'अन्नया य वस्सोकिय रमति राय (या) ए राणियाउ पोत्तेण वाहिति' (श्रावक ६३ टी) ।

वह सक [वह] १ पहुँचाना । २ धारण करना । ३ ले जाना, ढोना । ४ अक. चलना, 'परिमलवइतो वहइ पवणो' (कुमा, उव, महा), 'गगा वहइ पाडल' (सुख २, ४५), वहसि (हे २, १६८) । कर्म वहिज्जइ, वन्मइ, वुन्मइ (कुमा, धात्वा १५, पि ५४१, हे ४, २४५) वक वहत, वहमाण (महा, सुर ३, ११, श्रौप) । कवक. वुअकमाण (उत २३, ६५, ६८) । हेक. वहिउ, वहित्तण, वोहु (धात्वा १५२, कस, सा १५) । क. वहिअञ्च, वोढञ्च (धात्वा १५२, प्रवि ३) ।

वट्ट सक [वर्त्तय्] १ वरतना । २ पिंड रूप से बंधना । ३ परोसना । ४ ढकना, प्राच्छादन करना । वट्टति (पिंड २३६) । कवक वट्टिज्जमाण (औप) ।

वट्ट वि [वृत्त] १ वर्तुल, गोलाकार (सम ६३, औप, उवा) । २ अतीत, गुजरा हुआ । ३ मृत । ४ सजात, उत्पन्न । ५ अधीत । ६ दृढ । ७ पु. कर्म, कछुमा (हे २, २६) । ८ न वर्तन, वृत्ति, प्रवृत्ति (सूत्र १, ४, २, २) । क्खुर, खुर पु [खुर] श्रेष्ठ अश्व (श्रोत्र ४३८, राज) । खेडु, खेडु धीन [खेल] कला-विशेष (णाय १, १—पत्र ३८, स ६०३, अत ३१ टि), देखो वत्थ-खेडु । देखो वत्त, वित्त = वृत्त । वैयड्ड पुं [वैताड्य] पर्वत विशेष (ठा १०) ।

वट्ट पुंन [वर्त्तमन्] वाट, मार्ग, रास्ता, 'पडि-सोएण पवट्टा चत्ता अणुसोअगामियो वट्टा' (सार्ध ११८, सुर १०, ४, सुपा ३३०), 'वट्ट' (प्राक् २०) । 'वाडण'न [पातन] मुसा-फिरो को रास्ते में लुटना, 'परदोहवट्टवाडण-वदग्गहत्तखणणपमुहाइ' (कुप्र ११३), 'सो वट्टपाडणेहि वदग्गहणेहि खत्तखणणेहि' (धमवि १२३) ।

वट्ट पुन [दे] १ प्याला, गुजराती में 'वाटको', 'पदमद्युटम्मि खलिया जीहा, हत्थाउ निवडिय वट्ट' (सुपा ४६६) । २ पु हानि, नुकसान, गुजराती में 'वट्टो', 'अन्नह उवक्खएणवि मूला वट्टो इह होहि' (सुपा ४४५) । ३ कोशक, शिला-पुत्रक, लोढा, 'वट्टावरएण' (भग १६, ३—पत्र ७६६) । ४ खाद्य-विशेष, गाढी कढी (परह २, ५—पत्र १४८) ।

वट्ट पु [वर्त] देश-विशेष (सत्त ६७ टी) । 'वट्ट पु [पट्ट] प्रवाह (कुमा) । देखो पट्ट (से ५, १४, भवि, गडड) ।

वट्टल देखो वट्ट = वृत्त ।
वट्टक } देखो वट्टय = वर्तक (परह १,
वट्टमा } १—पत्र ८, विपा १, ७—पत्र
७५, सूत्र २, १, १०, २६, ४३) ।

वट्टण देखो वत्तण (रभा) ।
वट्टणा देखो वत्तणा (राज) ।
वट्टमग न [वर्त्तमन्] मार्ग, रास्ता (भावा, जोप) ।

वट्टमाण देखो वट्ट = वृत्त ।
वट्टमाण न [दे] १ अग, शरीर । २ गन्ध-द्रव्य का एक तरह का अविवास (दे ७, ८६) ।

वट्टय देखो वट्ट = दे (पउम १०२, १२०) ।
वट्टय पु [वर्तक] १ पक्ति-विशेष, घटेर (सूत्र १, २, १, २, उवा) । २ बालको को खेलने का एक तरह का चपडे का बना हुआ गोल खिलौना (अनु ५, णाय १, १८—पत्र २३५) ।

वट्टय देखो पट्ट (गडड) ।
वट्टा खी [दे, वर्त्तमन्] देखो वट्ट = वर्त्तमन् (दे ७, ३१) ।

वट्टा खी [वार्त्ता] बात, कथा (कुमा) ।
वट्टाव सक [वर्त्तय्] बरताना, काम में लगाना । वट्टावेइ (उव) ।

वट्टावण न [वर्त्तन] बरताना, कार्य लगाना (उव) ।

वट्टावय वि [वर्तक] बरतानेवाला, प्रवर्त्तक (उव, णाय १, १४—पत्र १८६) ।

वट्टावय वि [वर्तन] प्रतिजागरक, शुश्रूषाकर्त्ता (वव १) ।

वट्टि वी [वर्त्ति] १ बत्ती, दीपक में जलनेवाली बाती । २ सलाई, फ्राँस में सुरमा लगाने की सली या सलाई । ३ शरीर पर किया जाता एक तरह का लेप । ४ लेख, लिखना । ५ कलम, पीछी (हे २, ३०) । देखो वत्ति, वित्ति ।

वट्टिअ वि [वर्त्तित] १ परिवर्त्तित (दे ५, २७) । २ वलित (पव २१६ टी) । ३ वर्तुल, गोल (परह १, ४—पत्र ७८, तडु २०) । ४ प्रवर्त्तित (भवि) ।

वट्टिआ खी [वर्त्तिका] देखो वट्टि (अभि २१७, नाट—रत्ना २१, स २३६) ।

वट्टिम वि [दे] अतिरिक्त (दे ७, ३४) ।
वट्टिय वि [दे] चूर्ण किया हुआ, पिसा हुआ, गुजराती में 'वाट्टेडु', 'पक्खित्त साहिणवट्टिय लोण' (स २६४) ।

वट्टिव न [दे] पर-कार्य (दे ७, ४०) ।
वट्टी खी [वर्त्ती] देखो वट्टि (हे २, ३०) ।
'वट्टी खी [पट्टी] पट्टा, 'ताव य कडिवट्टीभो पडिया खण्णवली भत्ति' (सुपा ३४४, १५४) ।

वट्टु न [दे] पात्र-विशेष (वृह १) । 'कर पु [कर] यक्ष-विशेष (राज) । 'करी खो [करी] विद्या-विशेष (राज) ।

वट्टुल वि [वर्तुल] १ गोल, वृत्ताकार (पात्र) । २ पुन, पलाएडु—प्याज के समान एक तरह का कन्द-मूल (हे २, ३०, प्राक्) ।
'वट्टु देखो पट्ट = पृष्ठ (गडड, गा १५०, ह १, ८४, १२६) ।

'वट्टि देखो सट्टि, 'वा-वट्टी' (सम ७५, पव ५, १८, पि २६५, ४५६) ।

वड पु [दे] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का एक भाग । २ क्षेत्र (दे ७, ८२) । ३ मत्स्य की एक जाति (परण १—पत्र ४७) । ४ विभाग (निच्छ २) । देखो वड्डु, 'वड्डसक-पवहण्णाय' (सिदि ३८२) ।

वड पु [वट] १ वृक्ष-विशेष, बरगद, वड का पेड (परण १—पत्र ३१, गा ६४, कम्पु) । २ न वृक्ष विशेष, 'वडजुगपट्टजुगाइ' (णाय १, १ टी—पत्र ४३) । 'नयर न [नगर] नगर विशेष (पउम १०५, ८८) । 'वड न [पट्ट] १ गुजरात का एक नगर, जो आज कल 'वडौदा' नाम से प्रसिद्ध है (प ५१६) । २ एक गोबुल (उप ५६७ टी) । 'साविती व्री [सावित्री] एक देवी (कम्पु) ।

वड देखो पड = पत् । वड्ड 'उग्रहिम्मि उण वडता' (से ७, ७) ।

'वड देखो पड = पट, 'पवण्णाहयवडवचलाभो लच्छीभो तह य मणुयाण' (सुर ४, ७६, से १०, १६, सुर १, ६१, ३, ६७, गा ३२६) ।

वडग न [वटक] खाद्य विशेष, वडा (पिंड ६३७) ।

वडग देखो वड = वट (अत) ।
'वडण देखो पडग (गा ५६७, गडड, महा) ।
वडप्प न [दे] १ लता गहन । २ निरन्तर वृष्टि (दे ७, ८४) ।

वडभ वि [वडभ] १ वामन, ह्रस्व (प्रोपना ८२) । २ जिसका पृष्ठ-भाग बाहर निकल गया हो वह (भावा) । ३ नामि के ऊपर का भाग जिसका टेढ़ा हो वह (परह १, १—पत्र २३) । ४ पीछे का या प्रागे का

उपमा, 'कम्पदुम तपोवैव काणकवहेण कामधेणु वा' (हि १७, सूम १, ४, २, १५, सुख २, ६, वव १)। ७ पाव-पूर्ति (उत्त २८, २८)।

वाअड पु [दे] शुक्र, तोता (पड)।

वाअड देखो वावड = व्यापृत, 'रद्वाम्रडा रमत पिग्रपि पुत्त सवइ माम्ना' (गा ४००)।

वाइ वि [वादिन्] १ बोलनेवाला, वक्ता (ग्राम्ना, भग, उव, ठा ४, ४)। २ वाद-कर्ता, शास्त्रार्थ में पूर्वपक्ष का प्रतिपादन करनेवाला (सम १०२, विसे १७२१, कुप्र ४४०, चेइय १२८, सम्मत्त १४१, आ ६)। ३ वार्त्तिक, तीर्थिक, इतर धर्म का अनुयायी (ठा ४, ४)।

वाइ नि [वाचिन्] वाचक, अभिधायक, कहने-वाला (विसे ८७४)।

वाइ देखो वाजि (राज)।

वाइअ वि [वाचिक] वचन सवन्धी (श्रीप, आ २४ पडि)।

वाइअ वि [वाचित] १ पाठित, पढाया हुआ (उत्त २७, १४, विसे ०३५८)। २ पढा हुआ, 'नाममि वाइए तथ' (सुपा २७०), 'अताहि कि वाइएण लेहेण' (हे २, १८६)।

वाइअ वि [वातिक] १ वात से उत्पन्न, वायु-जन्य (रोग आदि) (भग, एयाया १, १—पत्र ५०, तडु १६)। २ वायु से फूला हुआ, वात-रोगमाला (विसे २५७६ टी, पव ६१)। ३ उत्कर्षवाला, 'सपरक्कमराउलवा-इएण मोसे पलीविए नियए' (उव), 'चित्तइ सुरी एसो निममतो वाइडव्व डुडुमणो' (धर्मवि ७६)। ४ पु नपुसक का एक भेद (पुष्प १२७, धर्म ३)।

वाइअ नि [वादित] १ वजाया हुआ (गा ५५७, कुमा २, ८, ६६, ७०)। २ वन्दित, भनिनादित, चलणेनु निवडिउण वाइअ वनणा' (१ २६०)।

वाइअ न [वाय] वाजा, वादित्र (कम्प)। २ वाजा बजाने की गता (सम ८३, श्रीप)।

वाइअ रि [वान] वहा हुआ, चला हुआ, मुगुदुमु उयधदिरवगान्निणवाइयमोरा' (सुर २, ७६)।

वाइगण न [दे] वैगन, वृन्ताक, भंडा (उप ५६७ टी, दे ७, २६)।

वाइगणी } स्त्री [दे] वैगन का गाछ,
वाइगिणी } वृन्ताकी (राज परण १७—
पत्र ५२७)।

वाइगा [दे] देखो वाइया (उप १०३१ टी)।

वाइज्जत देखो वाए = वाचय्।

वाइज्जत देखो वाए = वादय्।

वाइत्त न [वादित्र] वाद्य, वाजा (कुप्र ११०, भवि)।

वाइइ वि [व्याधिइ] विपर्यय से उपन्यस्त, उलट-पुलट रखा हुआ (विसे ८५३)।

वाइइ वि [व्यादिग्ध] १ उपदिग्ध, उपलिस। २ वक्र, टेडा (भग १६, ४—पत्र ७०४)।

वाइम देखो वा = व्ये।

वाइयव्व देखो वाय = वादय्।

वाइकरण देखो वाजीकरण (राज)।

वाउ पु [वायु] १ पवन, वात (कुमा)। २ वायु-शरीरवाला जीव (अणु, जी २, द १३)।

३ मुहूर्त्त-विशेष (सम ५१)। ४ सौधर्मेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति देव (ठा ५, १—पत्र ३०२)। ५ नक्षत्र-देव विशेष, स्वाति-नक्षत्र का अधिपति देवता (ठा २, ३—पव ७७, सुज १०, १२ टी)।

°आय पु [°काय] १ प्रचण्ड पवन (ठा ३, ३—पत्र १४१)। २ वायु शरीरवाला जीव (भग)।

°काइय पु [°कायिक] वायु शरीरवाला जीव (ठा ३, १—पत्र १२३, पि ३५५)।

°काय देखो °आय (जी ७, पि ३५५)।

°कुमार पुं [°कुमार] १ एक देव-जाति, भवनपति देवों की एक अवन्तर जाति (भग)।

२ हनुमान का पिता (पउम १६, २)।

°कलिया स्त्री [°उत्कलिना] वायु-विशेष, नीचे बहनेवाला वायु (परण १—पत्र २६)।

°काइय देखो °काइय (भग)। °काय देखो °आय (राज)।

°त्तरवडिसग पुन [°उत्तरावतसक] एक देव-विमान (सम १०)।

°पवेल पु [°प्रवेश] गवाक्ष, फरोखा, वातायन (श्रीधमा ५८)। °पपइट्टाण वि [°प्रतिष्ठान] वायु के प्रावार से रहनेवाला (भग)।

°भूइ पु [°भूति] नगवान् महावीर का एक गणधर—मुख्य शिष्य (कम्प)।

वाउ पु [दे] इक्षु, ऊल (दे ७, ५३)।

वाउड वि [प्रावृत] १ आच्छादित, ढका हुआ (भग २, १, पव ६१)। न. कपडा, वस्त्र (ठा ५, १—पत्र २६६)।

वाउत्त पु [दे] १ विट। २ जार, उपपति (दे ७, ८८)।

वाउत्पइया स्त्री [दे. वातोत्पत्तिका] भुज-परिसर्प की एक जाति, हाथ से चलनेवाले जन्तु की एक जाति, 'एउलसरडजाहगसुपु सखाडहिलवाउप्पि (°पपइ) यधीरोलियसिरीसि-वणणे य' (परह १, १—पत्र ८)।

वाउत्तमाम पु [वातोत्तमाम] अनवस्थित पवन, 'वाउत्तमाम (°त्तमाम) मे वाउत्तलिया' (परण १—पत्र २६)।

वाउय वि [व्यापृत] किसी कार्य में लगा हुआ (एयाया १, ८—पत्र १४६, श्रीप)।

वाउरा स्त्री [वागुरा] भृगु-बन्धन, पशु फँसाने का जाल, फन्द (पउम ३३, ६७, हेका ३१, गा ६५७)। देखो वगुरा।

वाउरिय वि [वागुरिक] जाल में फँसाने का काम करनेवाला, व्याध (परह १, १, विपा १, ५—पत्र ६४)।

वाउल वि [व्याकुल] १ धवडाया हुआ (उव, उप पृ २२०, कव ३४, हे २, ६६)। २ पु क्षोभ (परह १, ३—पत्र ४४)। °भूअ वि [°भूत] व्याकुल बना हुआ (उप २२० टी)।

वाउल वि [वातुल] १ वात-रोगी, उन्मत्त। २ पु वातसमूह (हे १, १२१, प्राक्क ३०)।

वाउलगग न [दे] सेवा, भक्ति, 'निच्च चिय वाउलगग कुणति' (राज)।

वाउलण न [व्यापरण] व्यावृत्त-क्रिया, व्यापार (वव १)।

वाउलणा स्त्री [व्याकुलना] व्याकुल करता (वव ४)।

वाउल्लिअ वि [व्याकुल्लित] १ व्याकुल बना हुआ (सण)। २ विलोलित, क्षोभ-प्राप्त (परह १, ३—पत्र ४५)।

वाउल्लिआ स्त्री [दे] छोटी खाई (गा ६२६)।

वाउल्ल देखो वाउल = व्याकुल (हे २, ६६, पड)।

वड्ढविअ वि [वर्धित, वर्धापित] जिसको
बवाई दी गई हो वह (दे ६, ७४)।
वड्ढार (अप) सक [वर्धय] बढ़ाना,
गुजराती मे 'वघारखु'। वड्ढारइ (भवि)।
वड्ढाय देखो वड्ढव । वड्ढावेमि (प्राक
६१, पि ५५२)।

वड्ढावअ देखो वड्ढवअ (प्राक ६१, कप्पू,
उवा)।

वड्ढाविअ वि [दे] समापित, समाप्त किया
हुआ (दे ७, ४५)।

वड्ढि वि [वर्धिन्] बढ़नेवाला (से १, १)।
वड्ढि स्त्री [वृद्धि] बढ़ती, बढ़ाव (उवा, देवेन्द्र
३६७, जीवस २७४)।

वड्ढिअ वि [वृद्ध] बड़ा हुआ (कुमा ७,
५८, गा ४१०, महा)।

वड्ढिअ वि [वर्धित] १ बढ़ाया हुआ,
'महिवीढे नद्धवड्ढियनीरो उयहिब्ब वित्थरइ'
(सिंरि ६२७)। २ खरिडत किया हुआ,
काटा हुआ (से १, १)।

वड्ढिआ स्त्री [दे] कूपतुला, ढेंकुवा (दे ७,
३६)।

वड्ढिम पुत्री [वृद्धिमन्] वृद्धि, बढ़ाव,
'पत्ता दिण वड्ढिमा' (प्राक ३३, कप्पू)।

वड्ढ देखो वड्ढ = वट (हे २, १७४, पि २०७)।

वड्ढ वि [दे] मूक, वाक्-शक्ति से रहित
(सक्षि ३६)।

वड्ढर } पुं [वठर] १ मूखें छात्र । २
वड्ढल } बाह्य पुरुष और वैश्य स्त्री से
उत्पन्न सतान, अश्वत्थ । ३ वि शठ, धूर्त ।
४ मन्द, अलस (हे १, २५४, वड्)।

वण सक [वन्] मांगना, याचना करना ।
वणोइ (पिंड ४४३)।

वण पुं [दे] १ अघिकार । २ श्वपच, चांडाल
(दे ७, ८२)।

वण पुन [व्रण] घाव, प्रहार, क्षत, 'जस्सेअ
वणो तस्सेअ वेअखा (काप्र ८७१, गा ३८१,
४२७, पाप्र)। 'वट्ट पुं [पट्ट] घाव पर
बांधी जाती पट्टी (गा ४५८)।

वण न [वन] १ अरण्य, जंगल (अग, पाप्र,
उवा, कुमा, प्राक ६२, १४५)। २ पानी,
जल (पाप्र, वजा ८८)। ३ निवास । ४

आलय (हे ३, ८८, प्राप्र)। ५ वनस्पति
(कम्म ४, १०, १६, ३६, द १३)। ६
उद्यान, बगीचा (उप ६८६ टी)। ७ पु.
देवो की एक जाति, वानव्यतर देव (अग,
कम्म ३, १०)। ८ वृक्ष-विशेष (राय)।
°कम्म पुन [°कर्मन्] जंगल को काटने या
वेचने का काम (अग ८, ५—पत्र ३७०,
पडि)। °कम्मत न [°कर्मान्त] वनस्पति
का कारखाना (आचा २, २, २, १०)।
°गय पु [°गज] जंगली हाथी (से ३, ६३)।
°ग्गि पुं [°ग्गिन्] दावानल (पाप्र)। °चर
वि [°चर] वन मे रहनेवाला, जंगली
(पएह १, १—पत्र १३)। स्त्री °री
(रयण ६०), देखो °यर । °छिंद वि
[°च्छिन्द] जंगल काटनेवाला (कुप्र १०४)।
°थली स्त्री [°स्थली] अरण्य-भूमि (से ३,
६३)। °द्व पु [°द्व] दवानल (गाया १,
१—पत्र ६५)। °पव्वय पुन [°पर्वत]
वनस्पति से व्याप्त पर्वत, 'वणाणि वा
वणपव्वयाणि वा' (आचा २, ३, ३, २)।
°विराल पु [°विडाल] जंगली बिल्ला
(सण)। °माल न [°माल] एक देव-
विमान (सम ४१)। °माला स्त्री [°माला]
१ पैर तक लटकनेवाली माला (औप, अचु
३६)। २ एक राज-पत्नी (पउम ११, १४)।
३ रावण की एक पत्नी (पउम ३६, ३२)।
°थ वि [°ज] वन में उत्पन्न, जंगली (वजा
१२८)। °यर वि [°चर] १ वन मे
रहनेवाला, वनैला (गाया १, १—पत्र ६२,
गड)। २ पुत्री व्यन्तर देव (वित्से ७०७,
पव १६०)। स्त्री °री (उप पु ३३०)। °राइ
स्त्री [°राजि] तरु-पत्ति, वृक्ष-समूह (चड,
सुर ३, ४२, अक्षि ५५)। °राज, °राय पुं
[°राज] १ विक्रम को आठवीं शताब्दी का
गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (मोह १०८)।
२ सिंह, केसरी (चड)। °लइया, °लया स्त्री
[°लता] १ एक स्त्री का नाम (महा)। २
वह वृक्ष जिसको एक ही शाखा हो (कप्प,
वह वृक्ष जिसको एक ही शाखा हो (कप्प,
राय)। °याल वि [°पाल] उद्यान-पालक,
माली (उप ६८६ टी)। °वास पु [°वास]
अरण्य में रहना (पि ३५१)। °वासी स्त्री
[°वासी] नगरी-विशेष (राज)। °विदुग्ग
न [°विदुर्ग] नानाविध वृक्षों का समूह

(सूत्र २, २, ८, अग)। °विरोहि पु
[°विरोहिन्] आषाढ मास (सुज १०,
१६)। °सड पुंन [°षण्ड] अनेकविध वृक्षों
की घटा—समूह (उा २, ४, अग, राया १,
२, औप)। °हत्थि पु [°हस्तिन्] जंगल
का हाथी (से ८, ३६)। °लि, °लि स्त्री
[°लि] वन पत्ति (गा ५७६, हे २, १७७)।
वणइ स्त्री [दे] वन-राजि, वृक्ष पत्ति (दे ७,
३८, पड्)।

वणण न [वनन] बछड़े को उसकी माता से
भिन्न दूसरी गाय से लगाना (पएह १, २—
पत्र २६)।

वणण न [दे, न्यान] बुनना। °साला स्त्री
[°शाला] बुनने का कारखाना (दस १,
१ टी)।

वणद्धि स्त्री [दे] गो-बुन्द, गो समूह (दे ७,
३८)।

वणनत्तडिअ वि [दे] पुरस्कृत, आगे किया
हुआ (पड्)।

वणपक्कसावअ पु [दे] शरभ, श्वापद-विशेष
(दे ७, ५२)।

वणप्फइ पु [वनस्पति] १ वृक्ष-विशेष, फल
के बिना ही जिसमें फल लगता हो वह वृक्ष
(हे २, ६६, कुमा)। २ लता, तुल्य, वृक्ष
आदि कोई भी गाछ, पेड़ मात्र (अग)। ३ न.
फल (कुमा ३, २६)। °काइअ वि [°कायिक]
वनस्पति का जीव (अग)।

वणय पु [वनरु] दूसरी नरक-पृथिवी का एक
नरक स्थान (देवेन्द्र ६)।

वणरसि (अप) देखो वाणारसी (पिग, पि
३५४)।

वणव पुं [दे] दावानल (दे ७, ३७)।

वणसवाई स्त्री [दे] कोकिला, कोयल (दे
७, ५२, पाप्र)।

वणस्सइ देखो वणप्फइ (हे २, ६६, जो २,
उव, पएण १)।

वणाय वि [दे] व्याघ्र से व्याप्त (दे ७, ३५)।

वणार पु [दे] वननीय वृक्ष (दे ७, ३७)।

वणि वि [व्रणिन्] घाववाला, जिसको घाव
हुआ हो वह (दे ६, ३६, पचा १६, ११)।
वणि पु [वणिन्] वनिया, व्यापारी,
वणिअ } वैश्य (औप, उप ७२८ टी, सुट

वाङ्मि पु [दि] पशु-विशेष, गण्डक, गंडा (दे ७, ५७) ।

वाङ्मि पु [दि] कृमि, कीट (दे ७, ५६) ।

वाङ्मि स्त्री [दि] वृत्ति, वाङ्, 'धरवारे कारिया कटपहि वाङ्मि' (कुप्र २६, दे ७, ५३, ५८, पङ्) ।

वाङ्मि स्त्री [वाटं] वगोचा, उद्यान (धर्मस ४१) ।

वाङ्मि पु [दि] वणिक् सहाय, वैश्य-मित्र वाङ्मि (दे ७, ५३) ।

वाण मक [वि + नम्] विशेष नमना— नत होना । वाणइ (?) (घाटा १५२) ।

वाण वि [मान] वन मे उत्पन्न, वन-सकन्धी (श्रीप, सम १०३) । °पत्थ, °प्यत्थ पु [प्रस्य] वन मे रहनेवाला तापस, सुतीय आत्म मे स्थित पुरुष (श्रीप, उप ३७७) ।

°मत, °मतर °वतर पुष्ठी [°व्यन्तर] देवो को एक जाति (भग, ठा २, २, सुर १, १३७, श्रीप, जी २४, महा, मि २५१) । स्त्री. °री (परण १७—पत्र ४६६, जीव २) । °वासिआ स्त्री [°वासिका] छन्द-विशेष (अजि ३३) ।

°वाण देखो पाण = पान । °वत्त न [°पात्र] पीने का प्याला (से १, १८) ।

वाणय पु [दि] कलयकार, कपण बनानेवाला शिल्पी (दे ७, ५४) ।

वाणर पुन [वानर] १ बन्दर, कपि, मकंड (परह १, १, पात्र) । २ विद्याधर मनुष्यो का एक वंश । ३ वानर-वंश मे उत्पन्न मनुष्य (पउम ६, १) । °उरी स्त्री [°पुरी] किष्किन्धा नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी (दे १६, ७०) । °केउ पु [°केतु] वानर-वंश का राजा भी राजा (पउम ८, २३५) ।

°दीम पु [°द्वीप] एक द्वीप (पउम ६, ३६) । °उर पु [°ध्वज] इन्द्रमान (पउम ५३, ४३) । °उइ पु [°पति] सुश्रोत्र, रामात्र का एक सेनापति (से २, ११, ३, ५२) । °वा वानर ।

वाणरिड पु [वानरेन्द्र] वानर-वशीय पुरुष का राजा वालो (पउम ६, १०) ।

वाणमाल पु [दि] रत्न, पुरन्दर (दे ७, ६०) ।

वाणहा देखो पाणहा, वाहणा = उपानह, (पि १४१) ।

वाणा देखो वायणा = वाचना । °यरिअ पु [°चार्य] अभ्यापन करनेवाला साधु, शिक्षक, 'एसो चिय ता कीरड वाणायरिओ, तओ गुरु भणइ' (उप १४२ टी) ।

वाणारसी स्त्री [वारारसी] भारतवर्ष की एक प्राचीन नगरी, जो आज कल 'वनारस' नाम से प्रसिद्ध है (हे २, ११६, खायी १, ४, उवा, इक, उव, धर्मवि ५, पि ३८५) । वाणि देखो वणि = वणिज (भवि) । °उत्त, °पुत्त पु [°पुत्र] वैश्य-कुमार, बनिगा का लडका (कुप्र ३६, ८८, २२१, ४०४, सिरि ३८४, धर्मवि १०४) ।

वाणि स्त्री [वाणि] देखो वाणी (सति ४) ।

वाणिअ पु [वाणिज] १ बनिगा, व्यापारी, वैश्य (आ १२, सुर १, २४८, १३, २६, नाट—मृच्छ ५५, वसु, सिरि ४०) । २ एक गाँव का नाम (उवा, अत, विपा १, २) ।

वाणिअ (अप) देखो वाणिज (सण) ।

°वाणिअ देखो पाणिअ = पानीय (गा ६८२, सिरि ४०, सुपा २२६) ।

वाणिअय पु [वाणिजक] बनिगा, वैश्य, व्यापारी (पात्र, काप्र ८६३, गा ६५१, उव, सुपा २२६, २७५, प्रासू १८१) ।

वाणिज न [वाणिज्य] १ व्यापार, बैपार (सुपा ३४३, पडि) । २ एक जैन मुनि कुल का नाम (कप्य) ।

वाणिज्जा स्त्री [वाणिज्या] व्यापार, 'अहिच्छत नगर वाणिज्जाए गमित्तए' (खायी १, १५) ।

वाणिज्जिय वि [वाणिजिक] वाणिज्य-कर्ता, व्यापारी (भवि) ।

वाणी स्त्री [वाणी] १ वचन, वाक्य (पात्र) । २ वाग्देवता, सरस्वती देवी (कुमा, सति ४) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

°वाणीअ देखो पाणीअ (काप्र ६२५) ।

वाणीर पु [दि] जम्बू दुध, जासुन का पेठ (दे ७, ५६) ।

वाणीर पु [वानीर] वेत्त-दुध, बेंत का पेठ (पात्र, गा ५६६) ।

वाणु जुअ पु [दि] वणिक्, वैश्य, 'एसो हला नवल्लो दीसइ वाणु जुओ कोवि' (उप ७२८ टी) ।

वात देखो वाय = वात (ठा २, ४—पत्र ८६) ।

वातिक } देखो वाइअ = वातिक (परह १, वातिय } ३—पत्र ५४, श्लोष ७२२) ।

वाद देखो वाय = वाद (राज) ।

वादि देखो वाइ = वादिन् (उवा) ।

वानर देखो वाणर (विपा १, २—पत्र ३६, विसे ८६३, सुपा ६१८), 'पुब्बभववानराणि व ताइ विलसति सिच्छाए' (धर्मवि १३१) ।

वापफ देखो वावफ । वापफइ (षड्) ।

वापिद् (शौ) देखो वावड = व्यापुत (नाट—वेणी ६७) ।

वावाहा स्त्री [व्यावाधा] विशेष पीडा (खायी १, ४, चेइय ३५५) ।

वाम सक [वमय] वमन कराना, कै कराना ।

वामेइ, वामेज्ज (भग, पिड ६४६) । सक वामेत्ता (भग, उवा) ।

वाम वि [दि] १ मृत (दे ७, ४७) । २ आक्रान्त (पङ्) ।

वाम वि [वाम] १ सव्य, बायां (ठा ४, २—पत्र २१६, कुमा, सुर ४, ५, गडड) । २ प्रतिकूल, अननुकूल (पात्र, परह १, २—पत्र २८, गडड ८८८, ६६४, कुमा) । ३ सुन्दर मनोहर, 'वामलोमणा' (पात्र) । ४ न. सव्य पक्ष, 'वामत्यो' (पउम ५५, ३१) । ५ बायां शरीर (गा ३०३) । °लोअणा स्त्री [°लोचना] सुंदर नेत्रवाली स्त्री, रमणी (पात्र) । °लोकवादि, °लोगवादि पु [°लोकवादिन्] दार्शनिक-विशेष, जगत् को असद् माननेवाले मत का प्रतिपादक दार्शनिक (परह १, २—पत्र २८) । वट्ट वि [°वर्त] प्रतिकूल आचरण करनेवाला (बृह १) । °वत्त वि [°वर्त] वही अर्थ (ठा ४, २—पत्र २१६) ।

वाम पु [व्याम] परिमाण-विशेष, नीचे फैलाए हुए दोनों हाथों के बीच का अन्तराल (पत्र २१२, श्रीप) ।

वामण पुन [वामन] १ सत्यान-विशेष, शरीर का एक तरह का आकार, जिसमे

२८) । २ आवृत्ति, परावर्तन (पचा १२, ४३) । ३ स्थिति । ४ स्थापन । ५ वर्तन, होना । ६ वि वृत्तिवाला । ७ रहनेवाला (सक्ति १०) ।

वत्तणा स्त्री [वर्त्तना] ऊपर देखो, 'वत्तणा-लक्षणा कालो' (उत्त २६, १०, आदम) ।

वत्तणी स्त्री [वर्त्तनी] मार्ग, रास्ता (परह १, ३—पत्र ५४, विसे १२०७, सूअनि ६१ टी, सुपा ५१८) ।

वत्तद्व वि [दे] १ सुन्दर । २ बहु-शिक्षित (दे ७, ८५) ।

वत्तमाण पु [वर्त्तमान] १ काल-विशेष, चलता काल (प्राप्र, सक्ति १०) । २ वि वर्त्तमान-कालीन, विद्यमान । ३ पु विद्यमानता (घर्मस ५७३) ।

वत्तारि देखो सत्तारि (सम ८३, प्रासू १२६, पि ४४६) ।

वत्तव्य देखो व्य = वच् ।

वत्ता स्त्री [दे] सूत्र-बलनक, सूत्र वेष्टन-यन्त्र (परह १, ४—पत्र ७८, तद्दु २०) । देखो चत्ता = (दे) ।

वत्ता स्त्री [वात्ता] १ बात, कथा (से ६, ३८, सुपा ३८७, प्रासू १, कुमा) । २ वृत्तान्त, हकीकत (प्राप्र) । ३ वृत्ति । ४ दुर्गा । ५ कृपि-कर्म, खेती । ६ जनश्रुति, किंवदन्ती । ७ गन्ध का अनुभव । ८ काल-कचुक भूत-नाश (हे २, ३०) । लाव पु [लाप] वातचीत (सिरि २८२) ।

वत्तार वि [दे] गवित, गर्व-युक्त (दे ७, ४१) ।

वत्ति स्त्री [दे] सीमा (दे ७, ३१) ।

वत्ति देखो वट्टि (गा २३२, ६५८, विसे १३६८) ।

वत्ति वि [वत्तिन्] वर्तनेवाला (महा) ।

वत्ति स्त्री [वृत्ति] प्रवृत्ति (सूय २, ४, २) । देखो वित्ति ।

वत्ति स्त्री [व्यक्ति] अमुक एक वस्तु, एकाकी वस्तु । पड्डा स्त्री [प्रतिष्ठा] प्रतिष्ठा-विशेष, जिस समय मे जो तीर्थकर नियमानु-वृण हो उसके विन्द की विधि-पूर्वक स्थापना उवा, हुय ३५) ।

वत्ति [वात्तिक] कथाकार, 'वत्तिभो' जस (प्राप्र, २ पुन टोका की टोका (सम

४६, विसे १४२२) । ३ ग्रथ की टोका—व्याख्या (विसे १३८५) ।

वत्तिअ वि [वत्तित] १ वृत्त—गोल किया हुआ (राया १, ७) । २ आच्छादित (पडि) ।

वत्तिअ देखो पञ्चय = प्रत्यय (श्रौप) ।

वत्तिआ देखो वट्टिआ (प्राप्र) ।

वत्तिणी स्त्री [वत्तिनी] मार्ग, रास्ता (प्राप्र, स ४, सुर १२, १३६) ।

वत्ती देखो पत्ती = पत्नी (गा ७६, १०६, १७३) ।

वत्तु देखो व्य = वच् ।

वत्तुकाम वि [वत्तुकाम] बोलने की चाह-वाला (स ३१८, अमि ४४, स्वप्न १०, नाट—विक्र ४०) ।

वत्तुल देखो वट्टुल (राज) ।

वत्थ पुन [वत्थ] कपडा (आचा २, १४, २२, उवा, परह १, १, उप पु ३३३, सुपा ७२, ४६१, कुमा, सुर ३, ७०) । खेडु न [खेल] कला विशेष (ज २ टी—पत्र १३७) । धोव वि [धाव] वल्ल धोनेवाला (सूअ १, ४, २ १७) । पूस पु [पुष्य] एक जैन मुनि (कुलक २२) । पूसमित्त पु [पुष्यमित्त] एक जैन मुनि (ती ७) ।

वत्थि स्त्री [विद्या] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से वल्ल स्पर्श कराने से ही बीमार अच्छा हो जाय (वव ५) । सोह्य वि [शोयक] वल्ल धोनेवाला (स ४१) ।

वत्थ वि [व्यस्त] पुष्य, भिन्न, जुदा (सुर १६, ५५) ।

वत्थउड पु [दे] वत्थपुट] तद्दु, कपड-कोट, वत्थ-गृह (दे ७, ४५) ।

वत्थए देखो वस = वच् ।

वत्थग पु [वत्थाङ्ग] कल्पवृक्ष की एक जाति, जो वल्ल देने का काम करता है (पउम १०२, १२१) ।

वत्थर देखो पत्थर = प्रस्तर (गा ५५१) ।

वत्थलिज्ज न [वत्थलिय] वो जैन मुनि-कुलो के नाम (कप्प) ।

वत्थव्य वि [वास्तव्य] रहनेवाला, निवासी (पिड ४२७, सुर ३, ६१, सुपा ३६५, महा) ।

वत्थाणी स्त्री [दे] वल्लो-विशेष (परण १—पत्र ३३) ।

वत्थाणीअ पुंन [दे] साद्य-विशेष, 'हव्येण वत्थाणीएण भोज्जा कज्ज साधेति' (सुज १०, १७) ।

वत्थि पु [वस्ति] २ हति, मसक (भग १, ६, १८, १०, राया १, १८), 'वत्थिव्व वायपुराणो अत्तुवकरिसेण जहा त्था लवई' (सवोप १८) । २ अपान, गुदा, 'वत्थो अवाएण' (प्राप्र, परह १, ३—पत्र ५३) । ३ छाते मे शलाका—सली—सलाई बैठने का स्थान, छत्र का एक अवयव (श्रौप) । कम्म न [कर्मन्] १ सिर आदि मे चर्म-वेष्टन द्वारा किया जाता तैल आदि का पुरण । २ मत साफ करने के लिए गुदा मे वत्थी आदि का किया जाता प्रक्षेप (विपा १, १—पत्र १४, राया १, १३) । पुडग पुन [पुटक] फट का भीतरी प्रदेश (निर १, १) ।

वत्थिय पु [वात्थिक्क] वल्ल बनानेवाला शिल्पी (अणु) ।

वत्थी स्त्री [दे] उटज, तापसो की पण-कुटी (दे ७, ३१) ।

वत्थु न [वस्तु] १ पदार्थ, चीज (प्राप्र, उवा, सम्म ८, सुपा ४०१, प्रासू ३०, १६१, ठा ४, १ टी—पत्र १८८) । २ पुन पूर्व-अन्या का अध्ययन—प्रकरण, परिच्छेद (सम २५, एदि, अणु, कम्म १, ७) । पाल, वाल पु [पाल] राजा वीरधवल का एक सुप्रसिद्ध जैन मन्त्री (ती २, हम्मोर १२) ।

वत्थु न [वास्तु] १ गृह, घर, 'खेतवत्थुविदि परिमाण करेई' (उवा) । २ गृहादि-निर्माण-शास्त्र (राया १, १३) । ३ शाक-विशेष (उवा) । पाडग वि [पाठक] वास्तु-शास्त्र का अध्यायी (राया १, १३, घर्मनि ३३) । वज्जा स्त्री [विद्या] गृह निर्माण-कला (श्रौप, ज २) ।

वत्थुल पु [वत्थुल] गुच्छ और हल्ल वनस्पति-विशेष, शाक विशेष (परण १—पत्र ३२, ३४, पत्र २५६) ।

वत्थूल पु [वत्थूल] ऊपर देखा, 'वत्थु (वत्थु) ला वेणत्तव्व' (जी ६) ।

‘वह्महवाएण अल मम’ (गा १२३) । ४ वजाना, ‘मह्लवायचउप्फललोय’ (सिरि १५७) । ५ स्थैर्य, स्थिरता (आ २३) । ६ ध्य पु [‘ार्थ] तत्त्व-चर्चा, ‘तेहि सम कुण्ड वायत्थ’ (पउम ४१, ५०) । ७ स्थि वि [‘ार्थिन्] शास्त्रार्थ की चाहवाला (पउम १०५, २६) ।

वाय पु [पाठ] १ रसोई । २ वालक । ३ दैत्य, दानव (आ २३) । देखो पाग ।

वाय पु [पात] १ पतन (स ६५७, कुमा) । २ गमन । ३ उत्पतन, कूदन (सि १, ५५) । ४ पक्षी । ५ न पक्षि-समूह (आ २३) ।

वाय वि [पाट्] १ रक्षा करनेवाला । २ पीनेवाला । ३ सूखनेवाला (आ २३) ।

वाय देखो वाय (आ २३) ।

वाय पु [पाद्] १ पयन्त । २ पर्वत । ३ पूजा । ४ मूल । ५ किरण । ६ पैर । ७ चौथा भाग (आ २३) । देखो पाय = पाद ।

वाय देतो पाय = पाप (आ २३) ।

वाय पु [पाय] १ रक्षा, रक्षण । २ वि. पीनेवाला (आ २३) ।

वाय देखो अवाय = अपाय, ‘वहुवायम्मि वि देह विमुज्जमाएणस्स वर गरण’ (उव) ।

वायउत्त पु [दे] १ विट, भँडुआ । २ जार, उपपत्ति (दे ७, ८८) ।

वायराग न [दे] वैगन, वृत्ताक, भटा (आ २०, सत्राय ४, पत्र ४) ।

वायतिय वि [नागन्तिक] वचन-मात्र मे नियमित (राज) ।

वायग पु [वाचक] १ अभिप्रायक, अभिवा-वृत्ति से अर्थ का प्रकाशक शब्द (सम्मत ११३) । २ उपाध्याय, सूत्र-पाठक मुनि (गण ५, सवाध २५, सार्थ १७७) । ३ पूर्व अर्थों का जानकार मुनि (परण १—पत्र ४, सम्मत १११, पचा ६, ४५) । ४ एक प्राचीन वैदिक महर्षि धार ग्रन्थकार, तत्त्वार्थ ज्ञान का तर्क और उमात्वातिवो (पचा ६, ४५) । ५ वि. तथक, कहनेवाला । ६ पढ़ाने-वाला (ए ५) ।

वाग वि [वाः] १ जानेवाला (कुमा ६, मट) ।

वायग पु [वायक] तन्नुवाय, जुलाहा (दे ६, ५६) ।

वायगवस पु [वाचकवश] एक जैन मुनि-वश (एदि ५०) ।

वायड पु [दे] एक श्रेष्ठि-वश (कुप्र १४३) ।

वायड वि [व्याकृत] स्पष्ट, प्रकट अर्थवाला (दसन ७) । देखो वागरिय ।

वायडघड पु [दे] वाद्य-विशेष, दहुर नामक वाजा (दे ७, ६१) ।

वायडगा पु [दे] सर्प की एक जाति (परण १—पत्र ५१) ।

वायण न [वाचन] देखो वायणा (नाट—रत्ना १०) ।

वायण न [वादन] १ बजाना (सुपा १६, २६३, कुप्र ४६, महा. कप्प) । २ वि. बजानेवाला (दे ७, ६१ टी) ।

वायण न [दे] भोज्योपायन, खाद्य पदार्थ का बाँटा जाता उपहार, वायन (दे ७, ५७, पात्र) ।

वायणया } स्त्री [वाचना] १ पठन, गुरु-
वायणा } समीपे श्रव्ययन (उप २६, १) ।
२ श्रव्यापन, पढ़ाना (सम १०६, उव) ।
३ व्याख्यान (पव ६४) । ४ सूत्र-पाठ (कप्प) ।

वायणिय वि [वाचनिक] वचन-सवन्धी (नाट—विक्र ३५) ।

वायय देखो वायग = वायक (दे ५, २८) ।

वायरग देखो वागरण (हे १, २६८, कुमा. भवि, पड) ।

वायव वि [वायव] वायु रोगवाला, वात-रोगी (विपा १, १—पत्र ५) ।

वायव देखो पायव (से ७, ६७) ।

वायव्य वि [वायव्य] वायव्य कोण का (अणु २१५) ।

वायव्य पु [वायव्य] १ वायुदेवता-सवन्धी, ‘वाहणवायव्वाइ पडुवियाइ कमेण सत्याइ’ (सुर ८, ४५, महा) । २ न. गौ के खुर से उठी हुई धूलि—रज, ‘वायव्वएहाएहाया’ (कुमा) ।

वायव्या स्त्री [वायव्या] पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, वायव्य कोण (ठा १०—पत्र ४७८, सुपा ६८, २६०) ।

वायस पु [वायस] १ काक, कौआ (उवा. प्रासू १६६, हे ४, ३५२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सर्ग मे कौए की तरह दृष्टि को इधर-उधर घुमाना (पव ५) ।

परिमंडल न [परिमण्डल] विद्या-विशेष, कौए के स्वर और स्थान आदि से शुभाशुभ फल बतलानेवाली विद्या (सुप्र २, २, २७) ।

वाया स्त्री [वाच्] १ वाचन, वाणी (पात्र: प्रासू ६, पडि, स ४६२, से १, ३७, गा ३२, ४०६) । २ वाणी की अविष्टाधिका देवी, सरस्वती (आ २३) । ३ व्याकरण-शास्त्र (गउड ८०२) । देखो वइ = वाच् ।

वायाड पु [दे वाचाट] शुक, तोता (दे ७, ५६) ।

वायाड वि [वाचाट] वाचाल, बकवादी (सुपा ३६०, चेइय ११७, सक्ति २) ।

वायाम पु [व्यायाम] कसरत, शारीरिक श्रम (ठा १—पत्र १६, णाया १, १—पत्र १६, कप्प, श्रौप, स्वप्न ३६) ।

वायाम सक [व्यायाम्य] कसरत करना, शारीरिक श्रम करना । वहु ‘सुट्टु वि वायामेतो काय न करेइ किंचि पुण’ (उव) ।

वायायण पुन [वातायन] १ गवाक्ष, झरोखा (पउम ३६, ६१, स २४१, पात्र, महा) । २ पु. राम का एक सैनिक (पउम ६७, १०) ।

वायार पु [दे] शिशिर वात, गुजराती मे ‘वायरो’ (दे ७, ५६) ।

वायाल वि [वाचाल] मुखर, बकवादी (आ १२, पात्र, सुपा ११३) ।

वायाल देखो पायाल (से ५, ३७) ।

वायाविअ वि [वादित] वजवाया हुआ (स ५२७, कुप्र १३६) ।

वायु देखो वाड = वायु (सुज १०, १२, कुमा, सम १६) ।

वार सक [वारय्] रोकना, निषेध करना । वारै (उव, महा) । वहु वारत (सुपा १८३) । कवक, वारिज्जत (काप्र १६१, महा) । हेक, वारेड (सुप्र १, ३, २, ७) ।

हु वारियव्व, वारेयव्व (सुपा ५५२, २०२) ।

वार पु [दे वार] चपक, पान-गार (दे ७, ५६) ।

चक्रवर्ती राजा हरियेण की माता का नाम (पउम ८, १४४, सम १५२)।
 वट्पिअ पु [दे] १ केदार, खेत (षड्)।
 २ नपुसक विशेष (पुष्प १२६)। ३ विरक्त, राग-युक्त (षड्)।
 वट्पिण पुन [दे] १ केदार, खेत (दे ७, ८५, औप, गायी १, १ टी—पत्र २, पात्र, पउम २, १२, पणह १, १, २, ५)। २ विउपित, जिसने वास किया हो वह (दे ७, ८५)।
 वट्पिण पुन [दे] १ केदारवाला देश। २ तटवाला देश (भग ५, ७—पत्र २३८)।
 वट्पी देखो वट्पा = वप्र (भग १५—पत्र ६६६)।
 वट्पीअ पु [दे] चातक पक्षी (दे ७, ३३)।
 वट्पीअ न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ७, ४८)।
 वट्पीह पु [दे] स्तूप, मिट्टी आदि का कूट (दे ७, ४०)।
 वट्पु देखो वड = वपुस् (भग १५—पत्र ६६६)।
 वट्पे अ [दे] इन अर्थों का सूचक प्रत्यय—१ उपहास-युक्त उल्लापन। २ विस्मय, आश्चर्य (सक्ति ४७)।
 वट्फाल देखो वट्फाल (दे ६, ६२ टी)।
 वफर न [दे] शक-विशेष (सुर १३, १५६)।
 वट्भं देखो वह = वह्।
 वट्भ पु [वअ] पशु-विशेष (स ४३७)।
 वट्भय न [दे] कमलोदर, कमल का मध्य भाग (दे ७, ३८)।
 वट्भिरिअ वि [वप्रभिरित] व्यभिचार दोष से दूषित (आ १४)।
 वट्भिरिअ देखो वहिचार (स ७११)।
 वट्भिरि वि [वयभिरिअ] १ न्याय-शास्त्रोक्त दोष-विशेष से दूषित, ऐकान्तिक (धर्मसं १२२७, पचा २, ३७)। २ परब्रह्म-सम्पत् (वव ६, ७)।
 वट्भियार देखो वहिचार (उवर ७६)।
 वस सक [वम्] उलटी करना, कै करना।
 वण वड वमत, वसमाण (गउड, विपा १, ७)।
 उवा, धु वटा (आचा, सूत्र १, ६, २६)। कृ जस (पात्र, २, १, ७)।

वमग वि [वामक] उलटी करनेवाला (चिदय १०३)।
 वमण न [वमन] उलटी, वात्ति, कै (आचा, गायी १, १३)।
 वमाल सक [पुअय] १ इकट्टा करना।
 २ विस्तारना। वमालइ (हे ४, १०२, पड्)।
 वमाल पु [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, ६०, पात्र, स ४३५, ५२०, भवि)।
 वमाल पुं [पुअ] राशि, ढग (सण)।
 वमालण न [पुअन] १ इकट्टा करना। २ विस्तार। ३ वि इकट्टा करनेवाला। ४ विस्तारनवाला (कुमा)।
 वम्म पुन [वर्मन्] कवच, सनाह, बस्तर (प्राप्र, कुमा)।
 वम्म देखो वम।
 वम्मथ } पु [मन्मथ] कामदेव, कर्षण
 वम्मह } (वड, प्राप्र, हे १, २४२, २, ६१, पात्र)।
 वम्मा देखो वामा (कम्प, पउम २०, ४६, सुख २३, १, पत्र ११)।
 वम्मिअ वि [वर्मित] कवचित्त, सनाह-युक्त (विपा १, २—पत्र २३)।
 वम्मिअ } पु [वल्मीक] कीट-विशेष-कृत
 वम्मिअ } मिट्टी का स्तूप, रूह या भीटा, दीमको के रहने की बाँवी (सूत्र २, १, २६, हे १, १०१, षड्, पात्र, स १२३, सुपा ३१७)।
 वम्मिइ पु [वालमीकि] एक प्रसिद्ध ऋषि, रामायण-कर्ता पुनि (उत्तर १०३)।
 वम्मिसर पु [दे] काम, कन्दर्प (दे ७, ४२)।
 वम्ह न [दे] वल्मीक (दे ७, ३१)।
 वम्ह पु [वम्हान्] १ वृक्ष-विशेष, पलाश का पेड़, 'नगोहवन्हा तल्' (पउम ५३, ७६)।
 २ देखो वम (प्राप्र)।
 वम्हल न [दे] केसर, किजल्क (दे ७, ३३, हे २, १७४)।
 वम्हाण देखो वमण (कुमा)।
 वय सक [वच्] बोलना, कहना। वयइ, वयए (पड्)। भवि, वच्चिइहिइ, वच्चिइ, वच्चिइहिइ, वच्चिइति, वच्चिइति, वच्चिइइ, वच्चिइहिइ, वच्चिइति, वच्चिइति, वच्चिइ (सक्ति ३२, पड्, हे ३, १७१, कुमा)। कर्म वुचइ

(कुमा)। कर्म भवि वड, वक्खमाण (विसे १०५३)। सड्, वड्त्ता, वडा, वोट्ण (ठा ३, १—पत्र १०८, सूत्र २, १, ६, हे ४, २११, कुमा)। हेड् वत्तए, वत्त, वोट्ण (आचा, प्रमि १७२, हे ४, २११, कुमा)। कृ वच्च, वत्तव्व, वोट्णव्व (विसे २, उप १३६ टी, ६४८ टी, ७६८ टी, पिड ८७, धर्मस ६२२, सुर ४, ६७, सुपा १५०, औप, उवा, हे ४, २११)। देखो वयणिल्ल।
 वय सक [वच्] बोलना, कहना। वयइ, वयसि (कस, कप्प), वड्जा, वण्जा (कप्प)। भुका वयासि, वयासी (औप, कप्प, भग, महा)। वड्, वयत, वयमाण, वयमाण (कप्प, काल, ठा ४, ४—पत्र २७४, सम्म ६६, ठा ७)। सड्, वड्त्ता (आचा)। हेड्, वड्त्तए (कप्प)।
 वय सक [वज्] जाना, गमन करना। वयइ (सुर १, २६८)। वयड (महा), वयज (गच्छ २, ६१)। कृ, वयत (सुर ३, ३७, सुपा ४३२)। कृ वड्दयव्व (राजा)।
 वय पु [वुक] पशु विशेष, भेडिया (पउम ११८, ७)।
 वय पु [दे] गृध्र पक्षी (दे ७, २६, पात्र)।
 वय पु [वज] १ सस्कार-करण। २ गमन (आ २३)।
 वय पु [वज] १ देश-विशेष (गा ११२)। २ गोकुल, दस हजार गोमो का समूह (गाया १, १ टी—पत्र ४३, आ २३)। ३ माण, रास्ता। ४ सस्कार-करण। ५ गमन, गति (आ २३)। ६ ममूह, मूष (आ २३, स २६७, सुपा २८८, टी ३)।
 वय पु [वयय] १ खर्च (स ५०३)। २ हानि, नुकसान (उव, प्रासू १८१)। देता विअ = वयय।
 वय न [वचस्] वचन, उक्ति (सूत्र १, १, २, २३, १, २, २, १३, सुपा १६४, मास ६१, द २२)। १ समिअ वि [समिअ] वचन का समय (भग)।
 वय पु [वड] कथन, उक्ति (आ २३)।
 वय पुन [व्रत] नियम, धार्मिक प्रवृत्ता (भग, पचा १०, ८, कुमा, उप २११ टी, प्रापण

वारुण न [वारुण] १ जल, पानी, 'निम्मल-
वारुणमडलमडिअससिचारपाणमुपवेसे' (सिदि
३६१)। २ वि वरुण-सवन्वी (पउम १२,
१२७, सुर ८, ४५, महा)। ३ त्थ न [वारुण]
वरुणाविहित अन्न (महा)। ४ पुर न [पुर]
नगर-विशेष (इक)।

वारुणी स्त्री [वारुणी] १ मदिरा, सुरा, दाह
(पात्र, से २, १७, सुर ३, ५५, पएह २,
५—पत्र १५०)। २ लता-विशेष, इन्द्र-
वान्छी, इन्द्रायन (कुमा)। ३ पश्चिम दिशा
(ठा १०—पत्र ४७८, सुपा २५५)। ४
भगवान् सुविधिनाथ की प्रथम शिष्या का
नाम (सम १५२, पव ६)। ५ एक दिक्कु-
मारी देवी (इक)। ६ कायोत्सर्ग का एक
दोष—? निष्पन्न होती मदिरा की तरह
कायोत्सर्ग में 'बुड-बुड' आवाज करना। २
कायोत्सर्ग में मतवाला की तरह डोलते रहना
(पत्र ५)।

वारुया } स्त्री [दे] हस्तिनी, हथिनी (स ७३५,
वारुया } ६४)।

वारैज्ज देखो धारिज्ज (स ७३४)।

वारैयव्य देखो वार = वार्य्।

वाल मक [वालय्] १ मोडना। २ वापस
लौटाना। वालइ, वालेइ (हे ४, ३३०,
भवि; सिदि ४४२)। कक्क वालिज्जत
(सुर ३, १३६)। सठ्ठ वालेऊण (महा)।

वाल पु [वालय] १ सर्प, साँप (गउड,
णया १, १ टी—पत्र ६, श्रौप)। २ कुट्ट
हाथी (सुर १०, २१६, चेइय ५८)। ३
हिसक, पशु, श्यापद (णया १, १ टी—
पत्र ६, श्रौप)। देखो विआल = ब्याल।

वाल न [वालय] १ एक गोन, जो कयप-गोन
तो एक शाखा है। २ पुत्री उम गोन में
उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।

वाल रेनो वाल - मान (श्रौप, पात्र)। १
वि [ज] क्या ने बना हुआ (पउम १०२,
१२१)। २ धोणाणी स्त्री [धीजनी] १
चार 'पत्र रायत्तहाइ, त जहा—उम
दत्त उमो वाट्टणाओ मालवीयण' (श्रौप)।
२ दादा व्यसन—पंगा, 'विपचारवाल-
वंगरणी पीउज्जनाणी' (णया १, १—
६३)

पत्र ३२, सूअ १, ६, १८)। १ हि पु [धि]
वही अर्थ (पात्र, सुपा २८१)।

वाल देखो पाल = पाल (काल, भवि, कुमा
१, ६६)।

वालफोस न [दे] कनक, सोना (दे ७,
६०)।

वालग न [वालक] पात्र-विशेष, गौ आदि के
बालो का बना हुआ पात्र (आचा २, १,
८, १)।

वालगपोतिया } स्त्री [दे] देखो वालग-
वालगपोइया } पोइआ (सुज्ज ४—पत्र
७०, उत ६, २४, सुख ६, २४)।

वालग न [वालन] लौटाना (सुर १, २४६)।

वालप न [दे] पुच्छ, दुम, पूँछ (दे ७,
५७)।

वाल्य पु [वालक] गन्ध-द्रव्य-विशेष (पात्र)।

वालवास पु [दे] मस्तक का आभूषण (दे
५६)।

वालवि पु [व्यालपिन] मदारी, साँपो को
पकड़ने आदि का व्यवसाय करनेवाला, संपेरा
(पएह १, २—पत्र २६)।

वालहिल्ल पु [वालखिल्य] ऋतु से उत्पन्न
पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत्र, जो अगुष्ठ-
पर्व के देह-मानवाले थे (गउड)। देखो
वालखिल्ल।

वाला पुत्री [वाला] कण्ठ, अन्न-विशेष,
'सपएण वालावल्लअ' (गा ८१२)।

वालि पु [वालि] एक विद्याधर-राजा,
कपिराज (पउम ६, ६ से १, १३)। १ तणअ
पु [तनय] राजा वाली का पुत्र, अगद
(से १३, ८३)। २ सुअ पुं [सुत] वही
अर्थ (से ४, १२, १३, ६२)।

वालि वि [वालिन] वक्र, टेटा (से १, १३)।

वालि वि [वालिन] १ केशवाला। २ पु-
कपिराज (अणु १४२)।

वालिअ वि [वालित] मोडा हुआ (पात्र,
स ३३७)।

वालिआफोस न [दे] कनक, सुवर्ण (दे
७, ६०)।

वालिद पु [वालीन्द्र] विद्याधर वंश का एक
राजा (पउम ५, ४५)।

वालिखिल्ल पु [वालिखिल्य] एक राजर्षि
(पउम ३४, १८)। देखो वालिहिल्ल।

वालिहाण न [वालधान] पुच्छ, पूँछ (णया
१, ३, उवा)।

वालिहिल्ल देखो वालहिल्ल (गउड ३२०)।

वाली स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, मुँह के पवन से
बजाया जाता तृण वाद्य (दे ७, ५३)।

वाली स्त्री [पाली] रचना विशेष, गाल आदि
पर की जाती कस्तूरी आदि की छटा (कप्पू)।
देखो पाली।

वालुअ पुं [वालुक] १ परमाधार्मिक देवों
की एक जाति, जो नरक-जीवों को तप्त
वालुका—बालू में चने की तरह भुनते हैं (सम
२६)। २ श्रुती-सम्बन्धी (उप पु २०५)।

वालुअ } स्त्री [वालुका] धूलि, बालू, रेत, रज
वालुआ } (गउड)। १ पुढवी स्त्री [पृथिवी]
तीसरी नरक-पृथिवी (पउम ११८, २)।
२ पभा, पहा स्त्री [प्रभा] तीसरी नरक-
भूमि (ठा ७—पत्र ३८८, इक, अत १५)।
३ भा स्त्री [भा] वही अर्थ (उत ३६,
१५७)।

वालुं न [दे] पक्वान्न-विशेष, एक तरह का
खाद्य, 'बीरदहिसूवकट्टरलभे गुडसप्पिवडग-
वालु के' (पिड ६३७)।

वालुं न [वालुङ्क] ककडी, खीरा (अतु ६,
कुप्र ५८)।

वालुंकी स्त्री [वालुङ्की] ककडी का गाछ
वालुङ्की } (गा १०, गा १० अ)।

वालुगं देखो वालुअ (स १०२)।

वाव सक [वि + आप्] व्याप्त करना।
वावेइ (हे ४, १४१)।

वाव अ [वाव] अथवा, या (विसे २०२०)।

वाव पुं [वाप] वपन, बोना (दे ६, १२६)।

वावइज्ज देखो वावज्ज। वावइज्जामि (स
७४१)।

वावंफ अक [कु] श्रम करना। वावंफइ
(हे ४, ६८)।

वावफिर वि [करिण्णु] श्रम करनेवाला
(कुमा)।

वावज्ज अक [व्या + पट्] मर जाना।
वावज्जति (भग)।

वरग न [वरक] महामूल्य पात्र, कीमती भाजन (आचा २, १, ११, ३)।
 वरट्ट पु [दे] धान्य-विशेष (पव १५४)।
 वरडा } ली [दे वरटा] १ तैलाटी, कीट-
 वरडी } विशेष, गधोली । २ दश भ्रमर,
 जन्तु-विशेष (मुच्छ १२, दे ७, ८४)।
 वरण पू [वरण] १ सगाई, विवाह-सवन्ध
 (सुपा ३५४, सुर १, १२६, ४, १०)। २ तट,
 किनारा (गडड)। ३ पूल, सेतु (ओध ३०)। ४
 प्राकार, किला (गा २४५)। ५ स्वीकार,
 ग्रहण (राज)। देखो वीर-वरण। ६ पु
 देश-विशेष, एक आर्य देश, 'वइराड वच्छ
 वरणा अचडा' (सूअनि ६६ टी, इक), देखो
 वरुण।
 वरणय न [वरणक] तुण-विशेष (गडड)।
 वरणसि (अप) देखो वाराणसी (पि ३५४)।
 वरणा ली [वरणा] १ काशी की एक नदी,
 वरुणा (राज)। २ अछ देश की प्राचीन
 राजधानी (सूअनि ६६ टी)। देखो वरुणा।
 वरणीअ देखो वर = वृ।
 वरत्त वि [दे] १ पीत। २ पतित। ३ पेटित,
 संहत (षड्)।
 वरत्ता ली [वरत्ता] रज्जु, रस्सी (पाअ, विपा
 १, ६, सुपा ५६२)।
 वरय पु [वरक] सगाई करनेवाला, विवाह का
 प्रार्थक पुख (सुर ६, ११५)।
 वरय पु [दे] शालि विशेष, एक तरह का
 धान्य (दे ७, ३६)।
 वरय वि [वराक] दोन, गरीब, बेचारा, रक
 (पाअ, सुर २, १३, ६, १६५, सुपा ६३,
 गा ५३३)। ली, 'रई (सति २, पि ८०)।
 वरला ली [वरला] हसी, हसपत्नी की मादा
 (पाअ)।
 वरसि देखो वरिसि (मोह ३०)।
 वरहाड अक [निर + सु] बाहर निकलना।
 वरहाडइ (हे ४, ७६)।
 वरहाडिअ वि [नि सूत] बाहर निकला
 हुआ, निर्गत (कुमा)।
 वराग देखो वराय (रभा)।
 वराड } पुं [वराट, क] १ बसिए का
 वराडग } एक देश, जो भाजकल भी 'वराट'
 वराडय } नाम से प्रसिद्ध है (कुप्र २५५,
 सुव १८, ३५, राज)। २ मपदक, कौड़ा—

वडी कौडी (उत्त ३६, १३०, ओध ३३४,
 आ १)। ३ न. कौडियो का जूमा जिसे
 बालक खेलते हैं (मोह ८६)।
 वराडिया ली [वराटिका] कपटिका, कौडी
 (सुपा २०३)।
 वराय देखो वरय = वराक (गा ६१, ६६,
 १४१, महा)। ली 'राइआ, 'राई (गा
 ४६२, पि ३५०)।
 वरावड पु व [वरावट] देश-विशेष (पउम
 ६८, ६४)।
 वराह पु [वराह] १ शूकर, सूअर (पाअ)।
 २ भगवान् सुविधिनाथ का प्रथम शिष्य
 (सम १५२)।
 वराही ली [वराही] विद्या-विशेष (विसे
 २४५३)।
 वरि अ [वरम्] अच्छा, ठीक,
 'वरि मरण मा विरहो,
 विरहो अइइरहो म्ह पडिहाइ।
 वरि एक चिय मरण,
 जेण समपति दुक्खाइ।' (सुर ४, १८२, भवि)।
 वरिअ देखो वज्ज = वयं (हे २, १०७, षड्)।
 वरिअ वि [वृत्] १ स्वीकृत (से १२, ८८)।
 २ सेवित (भवि)। ३ जिसकी सगाई की गई
 हो वह (वधु, महा)। ४ न सगाई करना,
 'सुवरिय ति' (उप ६४८ टी)।
 वरिट्ट पुं [वरिष्ठ] १ भरत-क्षेत्र का भावी
 वारहवाँ चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। २
 अति श्रेष्ठ (श्रीप, कप्प, उप पु ३८४, सुपा
 ४०३, भवि)।
 वरिह न [दे] वज्ज विशेष (कप्प)।
 वरिस सक [वृप्] वरसना, वृष्टि करना।
 वरिसइ (हे ४, २३५, प्राअ)। वड्ड
 वरिसंत, वरिसमाण (सुपा ६२४, ६२३)।
 हेड्ड वरिसिउ (पि १३५)।
 वरिस पुन [वर्ष] १ वृष्टि, वर्षा (कुमा,
 कप्प, भवि)। २ सवत्सर, साल (कुमा,
 सुपा ४५२; नव ६, द २७, कप्प; कम्म
 १, १८)। ३ जम्बूद्वीप का अय विशेष, भारत
 आदि क्षेत्र। ५ मेघ (हे २, १०५)। 'अ
 वि [ज] वर्षा में उपपन्न (पड्)। 'अण्ड
 न [कुदग] १ एक गोय। २ पुंजो, उज गोत्र

मे उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)। 'धर पु
 [धर] अन्त पुर-रक्षक परड-विशेष (आमा
 १, १—पत्र ३७, कप्प, श्रीप ५५ टि)।
 'वर पु [वर] वही अनन्तरोक्त प्रथं
 (श्रीप)। देखो वास = वर्ष।
 वरिसविअ वि [वर्षित] वरसाया हुआ
 (सुपा २२३)।
 वरिसा ली [वर्षा] १ वृष्टि, पानी का वरसना
 (हे २, १०५)। २ वर्षा-काल, श्रावण और
 भादो का महीना (प्रथो ७४)। 'काल पु
 [काल] वर्षा ऋतु, प्रावृट् (कुप्र ७५)।
 'रत्त पु [रात्र] वही अर्थ (ठा ६, आमा
 १, १—पत्र ६३)। 'ल देखो 'काल (पव
 ८५, महा)। देखो वासा।
 वरिसि वि [वर्षिन्] वरसनेवाला (वेणो
 १११)।
 वरिसिणी ली [वर्षिणी] विद्या-विशेष (पउम
 ७, १४२)।
 वरिसोलक पु [दे वर्षोलक] पक्वान-विशेष,
 एक प्रकार का खाद्य (पव ४ टी)।
 'वरिहरिअ देखो परिहरिअ (से ७, ३८)।
 वरु } पुन [दे] देखो वरुअ, 'चपयतरणे
 वरुअ } वरुणो फुल्लति सुरहिजलसिचा (१
 ता)' (सवोध ४७)।
 वरुंठ पु [वरुण्ट] एक शिल्पि-जाति (राज)।
 वरुड पु [वरुड] एक अन्त्यज-जाति (दे २,
 ८४)।
 वरुण पु [वरुण] १ चमर आदि इन्द्रा का
 पश्चिम दिशा का लोकपाल (ठा ४, १—पत्र
 १६७, १६८, इक)। २ बलि आदि इन्द्रा का
 उत्तर दिशा का लोकपाल (ठा ६, १)।
 ३ लोकान्तिक देवों की एक जाति (आमा
 १, ८—पत्र १५१)। ४ भगवान् सुनिमुप्रत
 का शासनाधिष्ठायक यक्ष (सति ८)। ५
 शतभिषक् नवान का अग्निष्ठाता देव (मुज १०,
 १२)। ६ एक देव विमान (दिनेन्द्र १३१)।
 ७ वृक्ष की एक जाति (पव ६)। ८ प्रहोरात्र
 का पनरहवाँ शुद्धनं (मुज १०, १३, सम
 ५१)। ९ एक नित्यापरनरपति (पउम ६,
 ८४, १६, १२)। १० एक वेष्टि-पुत्र (सुपा
 ५५६)। ११ छन्द-विशेष (पिग)। १२
 वरुणर द्रौ का एक अधिष्ठाता देव (वीन

२०१) । °भवन न [°भवन] वही अर्थ (महा) । °रेणु पु [°रेणु] सुगन्धी रज (श्रीप) । °हर न [°गृह] शयन-गृह (सुर ६, २७, सुपा ३१२, भवि) ।

वास पु [व्यास] १ ऋषि-विशेष, पुराण-कर्ता एक मुनि (हे १, ५, कप्प) । २ विस्तार (भग २, ८ टी) ।

वास न [वासस्] वस्त्र, कपडा (पात्र, वज्जा १६२, भवि) ।

°वास देखो पास = पाश (गउड) ।

°वास देखो पास = पाश (प्राक् ३०, गउड) ।

वासग पु [व्यासङ्ग] आसक्ति, तत्परता, 'वाहे सा पडियुदा विस व मोत्तए विसय-वासग' (उप १३१ टी, कुप्र ११८, उप पृ १२७) ।

वासठ } (अप) पु [वसन्त] छन्द का एक
वासत } भेद (पिग १६३, १६३ टि) ।

वासत पु [वर्षान्त] वर्षा-काल का अन्त-भाग (उप ४८८) ।

वासतिअ वि [वासन्तिरु] वसन्त सम्बन्धी (मै ३) ।

वासन्तिअ } स्त्री [वासन्तिका, °न्ती] लता-
वासन्तिआ } विशेष (श्रीप, कप्प, कुमा, परएण
वामती) १—पत्र ३२, शाया १, ६—
पत्र १६०, परह १, ४—पत्र ७६) ।

वामदी स्त्री [दे] कुन्द का पुष्प (दे ७, ५५) ।

वासग वि [वासरु] १ रहनेवाला (उप ७६८ टी) । २ वामना-कर्ता, सत्कारावायक (धर्मस ३२६) । ३ शब्द करनेवाला । ४ पु द्वीन्द्रिय आदि जन्तु (आचा) ।

वामण न [दे] पात्र, प्ररतन, गुजराती मे 'वाण' दिष्ट न पयत्तुआणिय चदएणाम-णिय हिरएणवामण' (न ६१, ६२) ।

वामण न [वासन] वामित करना (दसनि ३, ३) ।

वामणा स्त्री [वासना] सम्कार (धर्मस ३२६) ।

वामना स्त्री [दर्शन] अत्रोक्त, निरोक्षण (पिग १६०७, उप ४६०) । देखो पासणया ।

वामना नाम पासग । °सज्जा स्त्री [°सज्जा] अक्षर का एक भेद यह नायिका जो नायक की प्रतीति में नृत्य कर बेठी हो (कुमा) ।

वासर पुन [वासर] दिवस, दिन (पात्र, गउड, महा) ।

वासव पु [वासव] १ इन्द्र, देव-पति (पात्र, सुपा ३०४, चेइय ५८०) । २ एक राज-कुमार (विपा १, १—पत्र १०३) । °केउ पु [°केतु] हरिवंश का एक राजा, राजा जनक का पिता (पउम २१, ३२) । °दत्त पु [°दत्त] विजयपुर नगर का एक राजा (विपा २, ४) । °दत्ता स्त्री [°दत्ता] एक आख्यायिका (राज) । °धनु पुन [धनुप्] इन्द्र धनुष (कुप्र ४५६) । °नयर न [°नगर] अमरावती, इन्द्र-नगरी (सुपा ६०६) । °पुरी स्त्री [°पुरी] वही अर्थ (उप पृ १७६) । °सुअ पु [°सुत] इन्द्र का पुत्र, जयन्त (पात्र) ।

वासवदत्ता स्त्री [वासवदत्ता] राजा चड प्रद्योत की पुत्री और उदयन—वीणावत्सराज की पत्नी (उत्तनि ३) ।

वासवार पु [दे] १ तुरग, घोडा (दे ७, ५६) । २ श्वान, कुत्ता, 'विट्टालिज्जइ गया कयाइ कि वासवारोहि' (चेइय १३४) ।

वासवाल पु [दे] श्वान, कुत्ता (दे ७, ६०) ।

वासस न [वासस्] वस्त्र, कपडा, 'कुभोयणा कुवाससा' (परह १, २—पत्र ४०) ।

वासा देखो वरिसा (कुमा, पात्र, सुर २, ७८, गा २३१) । °रन्ति स्त्री देखो वरिसा रन्ति (हे ४, ३६५) । °वास पु [°वास] चतुर्मास मे एक स्थान मे किया जाता निवास (श्रीप, काल, कप्प) । °वासिय वि [°वाषिकरु] वर्षाकाल सम्बन्धी (आचा २, २, ८, ९) । °हू पु [°भू] भेक, मेढक (दे ७, ५७) ।

वासाणिया स्त्री [दे वासनिा] वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १६) ।

वासाणी स्त्री [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे ७, ५५) ।

वासि वि [वासिन्] १ निवास करनेवाला, रहनेवाला (सूत्र १, ६, ६, उवा, सुपा ६१८, कुप्र ४६, श्रीप) । २ वासना-कारक, सत्कार-स्थापक (निस १६७७) ।

वासि स्त्री [वासि] वसूला, बढई का एक अन्न—श्रीजार, 'न हि वासिवड्ढईण इह अमेदो कहन्निववि' (धर्मस ४८६) । देखो वासी ।

वासिकरु } वि [वाषिकरु] वर्षाकाल-भावी
वासिकरु } (नुज १२—पत्र २१६) ।

वासिठ्ठ न [वाशिष्ठ] १ गोत्र-विशेष (ठा ७—पत्र ३६०, कप्प, सुज्ज १०, १६) ।

२ पुत्री वाशिष्ठ गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७) । स्त्री °ड्डा, °ट्टी (कप्प, उत्त १४, २६) ।

वासिठ्ठिया स्त्री [वाशिष्ठिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

वासित्तु वि [वर्षित्तु] बरसनेवाला (ठा ४, ४—पत्र २६६) ।

वासिद } वि [वासित्त] १ बसाया हुआ,
वासिय } निवासित (मोह २१) । २ वासी रखा हुआ (अन्न आदि) (सुपा १२, ५३२) । ३ सुगन्धित किया हुआ (कप्प, पव १३३, महा) । ४ भावित, सत्कारित (आव) ।

वासी स्त्री [वासी] वसूला, बढई का एक अन्न (परह १, १, पउम १४, ७८, कप्प, सुर १, २८, श्रीप) । °सुह पुं [°सुख] वसूले के तुल्य मुँहवाला एक तरह का कीट, द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १३६) ।

वासुइ } पु [वासुकि] एक महा-नाग,
वासुगि } सर्पराज, (सि २, १३, गा ६६, गउड, ती ७, कुमा, सम्मत ७६) ।

वासुदेव पु [वासुदेव] १ श्रीकृष्ण, नारायण (परह १, ४—पत्र ७२) । २ अर्ध-चक्रवर्ती राजा, त्रिखण्ड भूमि का अधीश (सम १७, १५२, १५३, अत) ।

वासुपुज्ज पु [वासुपूज्य] भारतवर्ष में उत्पन्न बारहवें जिन भगवान् (सम ४३, कप्प, पडि) ।

वासुली स्त्री [दे] कुन्द का फूल (दे ७, ५५) ।

वाह सक [वाहय्] वहन कराना, चलाना ।

वाहइ, वाहेइ (भवि, महा) । कवक वाहिज्जमाण (महा) । हेइ वाहिइ (महा) । कृ वाह, वाहिम (हे २, ७८, आचा २, ४, २, ६) ।

वाह पुत्री [व्याध] खुषक, वहेलिया (हे १, १८७, पात्र) । स्त्री. °ही (गा १२१, पि ३८५) ।

वाह पु [वाह] १ अश्व, घोडा (पात्र, सूत्र १, २, ३, ५, उप ७२८ टी, कुप्र १६७, हम्मौर १८) । २ जहाज, नौका, 'वाहोडुवाइ तरण' (निस १०२७) । ३ भारवहन, बोझ ढोना (सूत्र १, ३, ४, ५) । ४ परिमाण-विशेष,

उलवाडी स्त्री [दे] वृत्ति, वाड (दे ७, ४३) ।
 उलविअ न [दे] शीघ्र, जल्दी (दे ७, ४८) ।
 उलहि स्त्री [दे] कर्पास, कपास (दे ७, ३२) ।
 उलहि } स्त्री [उलभि, °भी] १ गृह चूडा,
 उलही } छत्रा, वरामदा । २ महल का
 अग्रस्थ भाग (प्राप्र) । ३ काठियावाड का
 एक प्राचीन नगर, जिसको आजकल 'वळो'
 कहते हैं (ती १५, सम्मत ११६) ।
 उलआ देखो पलाय = परा + अय् । वक्क
 'वीसइ वि उलआतो' (से ६, ८६) ।
 उलआ देखो पलाव = प्रलाप (से ६, ४६) ।
 'उलआ देखो उल = वल् । मरण देखो
 उलय-मरण, 'सजमजोग विसन्ना मरति जे
 त वलायमरण तु' (पव १५७, ठा २, ४—
 पत्र ६३) ।
 उलि स्त्री [उलि] १ पेट का अग्रवयव-विशेष,
 'उपरवलिमसेहि' (निर १, १) । २ त्रिवलि,
 नामि के ऊपर पेट की तीन रेखाएँ (गा ४२५,
 भवि) । ३ जरा आदि से होती शिथिल
 चमडी (खाया १, १—पत्र ६६) ।
 उलिअ वि [दे] भुक्त, भक्षित (दे ७, ३५) ।
 उलिअ वि [उलित] १ मुडा हुआ- (गा ६,
 २७०, औप) । २ जिसको बल चढाया गया
 हो वह (रस्सि आदि) (उत्त २६, २५) ।
 उलिअ देखो उलिअ = व्यलीक (प्राप्र) ।
 उलिआ स्त्री [दे] ज्या, धनुष की जोरी (दे
 ७, ३४) ।
 'उलिअउत्त देखो परिच्छन्न (औप) ।
 उलिज्जत देखो उल = वल् ।
 'उलिज्जत देखो पलित्त (उप ७२८ दो) ।
 उलिमोडय पु [उलिमोटफ] वनस्पति मे
 ग्रन्थि का चक्राकार वेष्टन (पराण १—पत्र
 ४०) ।
 उल्लि वि [उल्लि] लोटनेवाला (सुपा
 ५६) ।
 उली स्त्री [उली] देखो उलि (निर १, १) ।
 उल्लुण देखो वरुण (हे १, २५४) ।
 उल्ले अ. सवोधन सूचक अव्यय (प्राक ८०) ।
 २-३ देतो वल्ले (पद्) ।
 उल्ल देतो उल्ल = वल् । उल्लद (पाल्या
 १५२) ।

उल्ल अक [उल्ल] चलना, हिलना (कुप्र
 ८४) ।
 उल्ल पु [दे] शिशु, बालक (दे ७, ३१) ।
 उल्ल पु [दे उल्ल] अन्न-विशेष, निष्पाव, गुज-
 राती मे 'वाल' (सुपा १३, ६३१, सम्मत
 ११८, सण) ।
 उल्लई स्त्री [उल्ली] गोपी (दे ७, ३६ टी) ।
 उल्लई स्त्री [दे] गो, गैया (दे ७, ३६) ।
 उल्लई } स्त्री [उल्लकी] बोणा (प्राप्र, दे
 उल्लकी } ७, ३६ टी, खाया १, १७—पत्र
 २२६) ।
 उल्लट्ट वि [दे] पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ
 (पद्) ।
 उल्लभ देखो उल्लह (गा ६०४) ।
 उल्लर न [दे उल्लर] १ वन, गहन (दे ७,
 ८६, प्राप्र, उत्त १६, ८१) । २ क्षेत्र, खेत
 (दे ७, ८६, परह १, १—पत्र १४) । ३
 अरण्य क्षेत्र (प्राप्र) । ४ बालुका युक्त क्षेत्र
 (गा ८१२) ।
 उल्लर न [दे] १ अरण्य घटवी । २ निर्जल
 देश । ३ पुं महिष, भैंसा, ४ समीर, पवन ।
 ५ वि युवा, तरुण (दे ७, ८६) । ६ वेष्टन-
 शील । ७ वेष्टित नामक आलिंगन विशेष
 करने की आदत वाला । स्त्री °री (गा ५३४) ।
 उल्लरी स्त्री [उल्लरी] वल्ली, लता (प्राप्र,
 गउड, सुपा ५२६) ।
 उल्लरी स्त्री [दे] केश, बाल (दे ७, ३२) ।
 उल्लव पुत्री [उल्लव] गोप, अहीर, ग्वाला
 (प्राप्र) । स्त्री °वी (गा ८६) ।
 उल्लवाय न [दे] क्षेत्र, खेत (दे ६, २८) ।
 उल्लविअ वि [दे] लाक्षा से रंगा हुआ (पद्) ।
 उल्लव पु [उल्लव] १ दयित, पति, भर्ता, बालभ
 (गउड, कप्प, गा १२३, हे ४, ३८३) ।
 २ वि प्रिय, स्नेह-मात्र, 'अह जाया वल्लहा
 अईव पिउणो' (महा, गा ४२, ६७, कुमा
 पजम १५, ७३, रयण ७६) । °राय पु
 [°राज] १ गुजरात का एक चौबुस्य वंशीय
 राजा (कुप्र ८) । २ दक्षिण के कुन्तल देश
 का एक राजा (कप्प) ।
 उल्लहा स्त्री [उल्लहा] दयिता, पत्नी (गा
 ७२) ।

उल्लादय न [दे] आच्छादन, ढकने का वत
 (दे ७, ४५) ।
 उल्लाय पुं [दे] १ श्येन पक्षी । २ नकुल,
 न्यौला (दे ७, ८४) ।
 उल्लि स्त्री [उल्लि] लता, बेल (कुमा) ।
 उल्लिर वि [उल्लिर] हिलनेवाला, 'न विरापद
 उल्लिरपल्लवा वि उल्लिरव्व फलहीणा' (कुप्र
 ८४) ।
 उल्ली स्त्री [उल्ली] लता, बेल (कुमा, पि
 ३८७) ।
 उल्ली स्त्री [दे] केश, बाल (दे ७, ३२) ।
 उल्लहीअ पु [वाहलीक] १ देश-विशेष (स
 १३, नाट) । २ वि वाह्लीक देश मे उल्लान्न,
 वाह्लीक देश का (स १३) ।
 उव सक [उव] वीना, 'जे सत्तखित्तुं
 उवति वित्त' (सत्त ७२) । वक्क, उवत
 (प्राप्रहि ७) । कवक्क उविल्लत (गा
 ३५८) ।
 उव सक [उव] देना । बवइ (वव १) ।
 कर्म, उवइ (कुप्र ४१) ।
 उवइस सक [उवप + उव] १ कहना,
 प्रतिपादन करना । २ व्यवहार करना ।
 उवइसति (धर्मस ४५२, सूत्रनि १४१) ।
 अन्ने अकालमरणस्सभावतो
 उवनिवित्तियो मोहा ।
 उवभासुअवित्तियासण-
 निवित्तितुल्ल उवइसति ॥
 (प्रावक १६२) ।
 उवएस पु [उवपदेश] १ कथन, प्रतिपादन ।
 २ व्यवहार (से ३, २६) । ३ कण्ठ, वहाना,
 छल (महा) ।
 उवगम पु [उवपगम] नाश (प्रायम) ।
 उवगय वि [उवपगत] १ दूर किया हुआ
 (सुपा ४१) । २ मृत (परह २, ५—पत्र
 १४८) । ३ नाश प्राप्त, नष्ट, 'उवगयवि'या
 सिग्घ पत्ता हिअइउत्तम ठाएँ' (एणि ११,
 औप, कप्प) ।
 उवट्टुअ पु [उवपट्टम्भ] मनलम्भन, सहारण
 (से ८, ८६) ।
 उवट्टावण देतो उवट्टावण (रात) ।
 उवट्टिअ वि [उवपट्टिअ] व्यवस्था-यान्त
 (से १२, ५२) ।

विअरण—विआरणा

पाइअसहमहणवो

विअरण न [वितरण] प्रदान, अर्पण, (गचा ७, ६, उप ५६७ टी. सण) ।

विअरिथ पि [विचरित] जिग्ने विचरण गिया हो वह, विद्वत (महा), 'विमलोकयम्ह नाम्ण जह्णय्या विरिया गुणा तुष्क' (पिउ ४६३) ।

विअल अक [भुज्] माडना, मरु करना । विअरद (धात्वा १५२) ।

विअल अक [वि + गल्] १ गत जाना, क्षीण होना । २ टगफना, भरना । वऊ. विअलत (गा ३६८, सुर ५, १२७) ।

विअल अक [ओज्य्] मजवूत होना (संदि ३५) ।

विअल वि [विकल्] १ होन, असपूर्ण (पण्ह १, ० पा ४०) । २ रहित, वर्जित, चन्प (सा २) । ३ विद्वल, व्याकुल, 'विअलुद्ध-रणमहाया ह्ययति जइ केवि सम्पुरिसा' (गा २८५) । ४ वेतो विअल = विकल ।

विअल सक [विकलय्] विकल बनाना । विअलई (महा) ।

विअल देतो विअड = विकट (से ८, २१) । विअल देतो विदल = द्विल (सवोध ४४) । विअलल वि [दे] दोष, लम्बा (दे ७, ३३) ।

विअल्लिअ वि [विमलित] १ नारा प्राप्त, नष्ट (म २, ४५, सण) । २ पतित, टगफ कर गिरा गुण, 'विअल्लिअ उभत' (पाप्र) ।

विअल्ल यत् [वि + चल] १ क्षुब्ध होना । २ अय तयित जाना, 'पल्ल जोहा, पुह-चमणु विअल्ल' (भवि) ।

विअल अक [वि + कस्] गिता । विअल (प्राक् ७६, हे ४, १२५) । वऊ विअलत, विअलमाण (श्रीप, गुण २०) ।

विअल्लय वि [विअसक] विअलित नरोताना (म ३) ।

विअल्लय वि [विअसित] विअलित निया गुण (गुण २२५) ।

विअल्लय वि [विअसित] विअल प्राप्त (म २३, पाप, सुर २, २२२, ४, ५८, पाप) ।

विअल्लय वि [विअसित] विअल प्राप्त (म २३, पाप, सुर २, २२२, ४, ५८, पाप) ।

विअल्लय वि [विअसित] विअल प्राप्त (म २३, पाप, सुर २, २२२, ४, ५८, पाप) ।

विआडआ छी [विपादिका] रोग-विशेष, विनाई, या वेवाई (दे ८, ७१) ।

विआडरी छी [विजनयित्री] व्यानेवाली, प्रसव करनेवाली (शाया १, २—पत्र ७६) ।

विआगर देखो वागर । विआगरेइ, विआगरति (आचा २, २, ३, १, सूत्र १, १४, १८), विआगरे, विआगरेज्जा (सूत्र १, ६, २५, विते ३३६, सूत्र १, १४, १६) । वऊ विआगरेमाण (आचा २, २, ३, १) ।

विआघाय देखो घाघाय (आचा) ।

विआण सक [वि + ङा] जानना, माजूम करना । विआणइ, विआणति (भग, गा ४८), विआणसि (पि ५१०), विआणहि, विआणोहि (पण्ह १—पत्र ३६, महा) । कर्म विआणज्ज (सट्टि १६) । वऊ विआणत, विआणमाण (श्रीप, उव) । संक्र. विआणिआ, विआणिऊण, विआणित्ता (वसू १, १८, महा, श्रीप, कप्प) । वऊ विआणियञ्च (उप ५ ६०) ।

विआण न [विज्ञान] जानकारी, जान, 'एक्कमि भाय । डुलह जिणमयविहिरियण-गुवियाण' (सट्टि १६) । देखो विज्ञाण ।

विआण न [वितान] १ विस्तार, फैलाव (गड १७६, ३०६, ५६२) । २ वृत्ति-विशेष । ३ अघसर । ४ यत् (हे १, १७७, प्राप्र) । ५ पुन चन्द्रातप, चँदवा, आच्छादन-विशेष (गड २००, ११८०, हे १, १७७, प्राप्र) ।

विआणम वि [विज्ञायक] जानकार, विज्ञ (उप ५ ११६) ।

विआणण न [विज्ञान] जानना, माजूम करना (स २६७, सुर ३, ७) ।

विआणय देखो विआणम (सम्म १६०, भग, श्रीप, सुर ६, २१, सण) ।

विआणिअ वि [विज्ञात] जाना हुआ, विदित (म २६७, गुण ३६१, महा, सुर ४, २१४, १२, ७१, पिग) ।

विआय सक [वि + जनय] जन्म देना, प्रसव करना, 'युजराती मे 'वियायु', 'वियायइ पठमं जं विअविह नारी' (उप ६६८ टी) । वऊ विआय (राज) ।

विआर सक [वि + कारय्] विकृत करना । विआरेदि (शौ) (मा ५१) ।

विआर सक [वि + चारय्] विचारना, विमर्श करना । विआरेइ (प्राक् ७१; भग), विआरिज्ज (सत्त ३६) । वऊ विआरयत (आ १६) । कवक विआरिज्जत (सुपा १८८) । वऊ विआरिअ (अभि ४४) । वऊ विआरणिज्ज (आ १४) ।

विआर सक [वि + दारय्] फाडना, चीरना । विआरे (अप) (पिग) । संक्र. विआरिऊण (श २६०) ।

विआर पु [विचार] विकृति, प्रकृति का भिन्न रूपवाला परिणाम (हे ३, २३, गड ७, सुर ३, २६, प्रासू ४६) ।

विआर पु [विचार] १ तत्त्व-निर्णय (गड ७, विचार १, द १) । २ तत्त्व निर्णय के अनुकूल शब्द-रचना (जी ५१) । ३ ख्याल, सोच, 'अणो वक्करकालो अणो कज्जि-आरकालो' (कप्प) । ४ दिशा-फरागत के लिए बाहर जाना (पव २, १०१) । ५ गमन की अनुकूलता (पव १०४) । ६ विचरण । ७ अयकाश, 'अतेउरे य दिण्णवियारे जाते मावि होत्था' (विपा १, ५—पत्र ६३) । ८ विमर्श, मोमासा । ९ मत, अभिप्राय (भवि) । १० धवल पु [धवल] एक राजा का नाम (उप ७२८ टी, महा) । ११ भूमि छी [भूमि] दिशा-फरागत जानने का स्थान (कप्प, उप १०२ टी) ।

विआरण न [विचारण] १ विचार करना (सुपा ४६४, सार्ध ६०) । २ वि. विचार करनेवाला, 'जय जिणनाह समत्थवत्थुपरमदव-वियारण' (सुपा ५२) । ३ वि विचरण करनेवाला, 'अवरत्तरविआरणिमाहि' (अग्नि २६) ।

विआरण न [विदारण] चीरना, फाडना (सार्ध ६६, स २४१) ।

विआरण देखो वागरण (कुप्र २४५) ।

विआरण वि [विदारण] विदारण संबन्धी, विदारण से उपपन्न होनेवाला । छी 'णिआ (नव १६) ।

विआरणा छी [विचारणा] विचार, विमर्श (उप ७२८ टी, स २७७, गचा ११, ३४) ।

वञ्जीस देखो वञ्जीसग, वञ्जीसक (पउम ११३, १११)।

वञ्जधि (मा) देखो वसहि = वसति (प्राक १०१)।

वञ्च (म) देखो वच्छ = वृक्ष (प्राक १०१)।

वस अक [वस्] ? वास करना, रहना। २ सक बाँधना। वसइ (कप्प, महा)। भूमा वसीय (उत्त १३, १८)। वक्क वसत, वसमाण (सुर २, २१६, ६, १२०, कुप्र १४, कप्प)। संक वसित्ता, वसित्ताण (आचा, कप्प, पि ५८३)। हेक्क वस्थाए वसिउ (कप्प, पि ५७८; राज)। क वसियव्व (ठा ३, ३, सुर १४, ८७, सुपा ४३८)।

वस वि [वश] ? श्रायत्त, अधीन (आचा, से २, ११)। २ पुन अधीनता, परतन्त्रता (कुमा, कम्म १, ४४)। ३ प्रभुत्व, स्वामित्व। ४ आज्ञा (कुमा)। ५ बल, सामर्थ्य (एया १, १७, औप)। ०अ, ०ग वि [०ग] वशीभूत, पराधीन (पउम ३०, २०, अचु ६१, सुर २, २३१, कुमा, सुपा २५७)। ०ट्ट वि [०ति] पराधीनता से पीड़ित, इन्द्रिय आदि की परवशता के कारण दुःखित (आचा, विपा १, १—पत्र ८, औप)। ०ट्टमरण न [०तिमरण] इन्द्रियादि-परवश की मोत (ठा २, ४—पत्र ६३, भाग)। ०वत्ति वि [वर्तिन्] वशीभूत, अधीन (उप १३६ ठी, सुपा २३८)। ०इत्त वि [०यत्त] अधीन, परतन्त्र (वर्मवि ३१)। ०णुग वि [०णुग] वही अर्थ (पउम १४, ११)।

वस पुं [वृष] ? धर्म (चेइय ५४१)। २ वैल, वृषभ (स ६५४, कम्म १, ४३)। देखो विस = वृष।

वसइ की [वसति] ? स्थान, आश्रय (कुमा)। २ रात्रि, रात (दे ७, ४१)। ३ गृह, घर (ग १६६)। ४ वास, निवास (दे १, २१४)।

वसत देखो वस = वस्।

वसुन पु [वसन्त] ? ऋतु-विशेष, चैत्र और वशाख मास का समय (एया १, १—पत्र ६४, पात्र, सुर ३, ३६, कुमा, कप्प, प्राप्

३४, ६२)। २ चैत्र मास (सुज १०, १६)। ०उर न [०पुर] नगर-विशेष (महा)। ०तिलअ पु [०तिलरु] ? हरिवंश में उत्पन्न एक राजा (पउम २२, ६८)। २ न एक उद्यान, जहाँ भगवान् ऋषभदेव ने वीणा ली थी (पउम ३, १३४)। ०तिलआ की [०तिलका] छन्द-विशेष (पिग)।

वसवय वि [वशवय] निज को अधीन करनेवाला (वर्मवि ६)।

वसण न [वसत] ? वक्त्र, कपडा (पात्र, सुपा २४४, चेइय ४८२, वर्मवि ६)। २ निवास, रहना (कुप्र ४८)।

वसण पु [वृषण] अण्ड-कोष, पोता (सम १२५, भाग, परह १, ३, विपा १, २, औप, कुप्र ३६५)।

वसण न [व्यसन] ? कष्ट, विपत्ति, दुःख (पात्र, सुर ३, १६२, महा, प्राप् २३)। २ राजादि-कृत उपद्रव (एया १, २)। ३ खराब आदत—चूत, मद्य-पान आदि खोटी आदत (वृह १)।

वसणि वि [व्यसनिन्] खोटी आदतवाला (सुपा ४८८)।

वसभ पु [वृषभ] ? ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष, वृष राशि (पउम १७, १०८)। २ भगवान् ऋषभदेव (चेइय ५४१)। ३ एक जैन मुनि, जो वलुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरु थे (पउम २०, १६२)। ४ गीतार्थ मुनि, ज्ञानी साधु (वृह १, ३)। ५ वैल, बलीवर्द (उव)। ६ उत्तम, श्रेष्ठ, 'सुणिवसभा' (उव)। ०करण न [०करण] वह स्थान जहाँ वैल बाधे जाते हो (आचा २, १०, १४)। ०वस्वेत्त न [०वस्त्रे] स्थान-विशेष, जहाँ पर वर्षा-काल में प्राचाय आदि रहते हो वह स्थान (वव १०, निचु १७)। ०गाम पु [०ग्राम] ग्राम-विशेष, कुत्सित देश में नगर-तुल्य गांव, 'आयि ह्व वसभगामा कुत्सेनगरीवमा सुहविहारा' (वव १०)। ०णुजाण पु [०णुजाण] ज्योतिषादि-प्रसिद्ध दश भोगों में प्रथम भोग, जिसमें चन्द्र, सूर्य और नक्षत्र वैल के आकार से स्थित होते हैं (सुज १२—पत्र २३३)। देखो वसभ, विसभ, वसह।

वसमुद्ध पु [दे] काक, कौमा (दे ७, ४६)। वसम देखो वसिम (महा)।

वसमाण देखो वस = वस्।

वसल वि [दे] वीर्य, लम्बा (दे ७, ३३)। वसह पु [वृषभ] वैयावृत्य करनेवाला मुनि (श्रौच १४०)। २ लक्ष्मण का एक पुत्र (पउम ६, २०)। ३ वैल, साढ़, सडि (पात्र)। ४ कान का छिद्र। ५ श्रौच-विशेष (प्राप्र)। ६ ध पु [०चिह्न] शकर, महादेव (गउड)। ०केउ पु [०केतु] इक्ष्वाकु वंश का एक राजा (पउम ५, ७)। ०वाहण पु [०वाहन] ? ईशान देवलोक का इन्द्र (न २—पत्र १५७)। २ महादेव, शकर (वजा ६०)। ०वीही की [०वीही] शुक्र ग्रह का एक क्षेत्रभाग (ठा ६—पत्र ४६८)।

वसहि देखो वसइ (दे १, २१४, कुमा, ग ५८२, पि ३८७)।

वसा की [वसा] ? शरीरस्य धातु-विशेष, 'भेयवसामस' (परह १, १—पत्र १४, एया १, १२)। २ भेद, चरबी (आचा)। ०वसारअ वि [प्रसारक] फैलानेवाला (ठ ६, ४०)।

०वसारअ देखो पसाहय (से ६, ४०)।

०वसाहा की [प्रसाधा] अलंकार, आभूषण (से १, १६)।

वसि देखो वसइ, 'जत्थ न नजइ पहि पहि अडविचिंठाणयविसेसो' (सुर १, ५२)।

वसिअ वि [उपिन] ? रहा हुआ, जिसने बात किया हो वह (पात्र, स २६५, सुपा ४२१, भत्त ११२, दे ७)। २ वासी, पशुपति, 'अवणेइ रयणिवसिय निम्मल्ल लोमहयेण' (सवीव ६)।

वसिउ पु [वसिउ] ? भगवान् पार्यन्ताय का एक गणधर (ठा ८—पत्र ८२६, सम २३)। २ एक ऋषि (नाट—उत्तर ८२)।

वसिउ पु [वसिउ] दीपकुमार देवों का उत्तर दिशा का इन्द्र (शक)।

वसित्त न [वसित्त] योग की एक विधि, योग-जन्य एक ऐश्वर्य, 'साधुनात्तुण्येण पउम नूरायि जंतुणो जति' (कुप्र २७७)।

वसिम न [दे वसिम] वज्रिपाता तथा (सुर १, २२, सुपा १६८, कुप्र २२८, महा)।

विङ्गह वि [विण्ण] वृष्णा रहित, नि स्पृह (से २, १०, प्राप्र, गा ६३, १७६)।

विङ्गह देखो विचिन्त(गउड) स २३६, ७४०)।

विङ्गह देखो विचिन्त (स ७४०)।

विङ्गहा } देखो विअ = विद्।
विङ्गहाण }

विङ्गिदि (शौ) देखो विचिन्तिय (स्वप्न ३६)।

विङ्गित्तु देखो विअ = विद्।

विङ्गित्त देखो विङ्गण = वितीर्ण(सुर ४, ११)।

विङ्गिमिसस वि [व्यतिमिश्र] मिश्रित, मिला हुआ (प्राचा)।

विउ वि [विद्, विद्दस्] विद्वान्, परिडत, जानकार (खाया १, १६, उप ७६८ टी, सुर १, १३५, सूत्र २, १, ६०, २भा)। °पक्रुड ली [°प्रकृत] १ विद्वान् द्वारा प्रकान्त। २ विद्वान् द्वारा किया हुआ (भग ७, १० टी—पत्र ३२५, १८, ७—पत्र ७५०)।

विउअ वि [वियुत] वियुक्त, रहित, 'दब्ब पज्जविउअ दब्ब विउत्ता य पज्जवा नत्थिय' (सम्म १२)।

विउअ वि [विवृत्] १ विस्तृत। २ व्याख्यात (हे १, १३१)।

विउअ (अप) देखो विओअ = वियोग (हे ४, ४१६)।

विउअआ जी [दि विचिचिका] रोग-विशेष, पामा रोग का एक भेद, 'केवि विउअचिअपामा-समत्थिया मवणा तस्स' (सिरि ११७)।

विउअ मक [वि + युज्] विशेष रूप से जानना। विउअति (सूत्र २, २, २१)।

विउअति ली [व्युत्पन्नति] उत्पत्ति, 'प्रतिउअति चममाण' (भा १, ७)।

विउअति ली [व्युत्पन्नति, व्यचक्रान्ति] मरण, मौन (भा १, ७)।

विउअम ना [व्युन् + नम्] १ परित्याग करना। २ उल्लंघन करना। ३ अफ च्युत रोग, नट गीना, मरना। ४ उत्पन्न होना। विउअति (भा ३, ३—पत्र १८१)।

गट विउअम (सुत्र १, १, १, ६, उत्त ५, १४, भाग १, ८, १, २)।

विउअस सक [व्युन् + कर्षय्] गर्व करना, बडाई करना। विउअसेजा, (सूत्र १, १३, ६), विउअसे (आचा १, ६, ४, २)।

विउअस पु [व्युत्कर्ष] गर्व, अभिमान (सूत्र १, १, २, १२)।

विउअच्छा देखो वि-उच्छा = विद्-जुगुप्सा।

विउअच्छेअ पु [व्यवच्छेद] विनाश (पचा १७, १८)।

विउअज्जम अक [व्युद् + यम्] विशेष उद्यम करना। वक्क 'धणियपि विउअज्जमताण' (पउम १०२, १३७)।

विउअज्ज अक [वि + बुध्] जागना। विउअज्जइ (भवि, सण)।

विउअसक [वि + कुट्टय्] विच्छेद करना, विनाश करना। हेक्क 'विउअसकए (ठा २, १—पत्र ५६, कस)।

विउअसक [वि + त्रोटय्] तोड़ डालना। विउअसक (सूत्र २, २, २०)। हेक्क. विउअसकए (ठा २, १—पत्र ५६)।

विउअसक [वि + वृत्] १ उत्पन्न होना। २ निवृत्त होना। विउअसक (सूत्र २, ३, १), विउअसका (ठा ८ टी—पत्र ४१८)।

विउअसक [वि + वर्तय्] १ विच्छेद करना। २ घूमकर जाना। विउअसक (स १७८)। सक विउअसक (आचा १, ८, १, २)। हेक्क विउअसकए (ठा २, १—पत्र ५६)।

विउअसक देखो विअसक = विवृत्त (कप्प)।

विउअसक न [विवर्तन] निवृत्ति (श्रीष ७६१)।

विउअसक न [विकुट्टन] १ विच्छेद। २ आलोचना। अतिचार विच्छेद (श्रीष ७६१)। ३ वि विच्छेद कर्ता (धम्मस ६६६)।

विउअसक ली [विकुट्टना] १ विविध कुट्टन। २ पीडा, सताप (सूत्र १, १२, २१)।

विउअसक वि [व्युत्थित] जो विरोध में खड़ा हुआ हो वक्क, विरोधी बना हुआ (सूत्र १, १४, ८)।

विउअसक [वि + नाराय्] विनाश करना। विउअसक (हे ८, ३१)। कर्म. विउअसकति (स ६७६)।

विउअसक न [विनाशन] १ विनाश (स २७, ६६१)। २ वि विनाश-कर्ता (स ३७, २८२)।

विउअसक वि [विनाशित] नष्ट किया गया (पाम, कुमा, उप ७२८ टी)।

विउअसक वि [विगुण] गुण रहित, गुण-हीन (हे ६, ७८)।

विउअसक वि [वियुक्त] विरहित, वियोग प्राप्ति (सुर ३, १२३, १०, १४५, सुपा ११०, काल, सण)।

विउअसक देखो विअसक = वि + वर्तय्।

विउअसक देखो विउअसक (कुप्र २२८, ३६६)।

विउअसक देखो विउअसक = विवृत्त (प्राप्र)।

विउअसक वि [विबुद्ध] १ जागृत (सुपा १४०)। २ विकसित (स ७६८)।

विउअसक वि [व्युत्प्रकट] अतिशय प्रकट—व्यक्त (भग ७, १० टी—प ३२५)।

विउअसक अक [व्युद् + भ्राज्] शोभना, दीपना, चमकना। वक्क विउअसकएमाण (भग ३, २—पत्र १७३)।

विउअसक अक [व्युद् + भ्राजय्] शोभित करना। वक्क विउअसकएमाण (भग ३, २)।

विउअसक वि [विद्दस्] विद्वान्, विज्ञ, 'विउअस ता पयहिण्ण सयव' (सूत्र १, २, २, ११)।

विउअसक देखो विदुर (वेणी १३४)।

विउअसक वि [विपुल] १ प्रभूत, प्रचुर। २ विस्तीर्ण, विशाल (उवा, श्रौप)। ३ उत्तम, श्रेष्ठ (भग ६, ३३)। ४ अगाव, गम्भीर (प्राप्र)। ५ पृ. राजगिर के समीप का एक पर्वत (पउम २, ३७)। °जस पु [°यशास्] एक जिनदेव का नाम (उप ६८६ टी)। °सइ ली [°मति] मन पर्यव नामक ज्ञान का एक भेद (कम्म १, ८, आवम)। २ वि उन्नत ज्ञानवाला (कप्प, श्रौप)। °अरी ली [°अरी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३८)। देखो विपुल।

विउअसक देखो विउअसक = वैक्रिय (कम्म ३, २)।

विउअसक देखो विओसिय = व्यवधान (राज)।

वह सक [वध्, हन्] मार डालना । वहेइ, वहति (उत्त १८, ३, ५, स ७२८, सवोष ४१) । कर्म वहिज्जति (कुप्र २५) । वह वहन, वहमाण (पउम २६, ७७, सुपा ६५१, श्रावक १३६) । कवक वहिज्जत, वज्जमाण (पउम ४६, २०, आचा) । सक वहिऊण (महा) ।

वह सक [व्यथ्] १ पीडा करना । २ प्रहार करना । क्व वह्येवत्त (पएह २, १—पत्र १००) ।

वह (अप) देखो वरिस = वृप् । वहदि (प्राक १२१) ।

वह पुत्री [वव] घात, हत्या (उवा, कुमा, हे ३ १३३, प्राप् १३६, १५३) । स्त्री, 'हा (सुख १, ३, स २७) । 'कारी स्त्री [करी] विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) ।

वह पु [दे] १ कन्धे पर का वण । २ वण, धाव (दे ७, ३१) ।

वह पु [वह] १ वृष स्कन्ध, बैल का कन्धा (विपा १, २—पत्र २७) । २ परीवाह, पानी का प्रवाह (दे १, ५५) ।

वह पु [व्यथ] लकृष्ट भावि का प्रहार (सूध १, ५, २, १४, उत्त १, १६) ।

वह देखो पह = पथिन् (से १, ६१, ३, १४, कुमा) ।

वहइअ वि [दे] पर्याप्त (पड १७७) ।

वहग वि [वधक] घातक, हिंसक, मार डालनेवाला (उवा, स २१३, सुपा ५६५, उप पृ ७०, श्रावक २१२, श्रा २३) ।

वहग वि [व्यथक] ताडना करनेवाला (ज २) ।

वहड पु [दे] दमनीय वखडा (दे ७, ३७) ।

वहटोल पु [दे] वात्सा, वात-सग्रह (दे ७, ४२) ।

वहण न [वधन] वध, घात, हत्या, 'अज्जो वधज्जोयकामयहणम्मि' (सुपा ५२२, धर्मवि १७, मोह १०१, महा, श्रावक १४४, २३७, उा पृ ३५७, सुपा १८८, पउम ४३, ४६) ।

वहण न [वदन्] १ वाना (धर्मवि ७२) । २ फौत, जहाज, यानवाह (धर्मवि ५६६, कुम्मा १५) । ३ सरुड भादि वाहन (उत्त

२७, २, सुपा १८२) । ४ वि. वहन करनेवाला (से ३, ६, ती ३) ।

वहण (श्री) देखो पगय = प्रकृत (प्राक ६७) ।

वहण (अप) देखो वसन = वसन (भवि) ।

वहणग स्त्री [वहना] निवहि (एया १, २—पत्र ६०) ।

वहणा स्त्री [वधना] वध, घात, हत्या (पएह १, १—पत्र ५) ।

वहण्ण पु [व्यधज] एक नरक-स्थान, 'उन्ने-याए विज्जलविमुहे तह विच्छवी वि (१व) हण्णय' (देवेन्द्र २८) ।

वह्य देखो वहग = वधक (सूध २, ४, ४, पउम २६, ७७, श्रावक २०८, सण) ।

वहलीअ देखो वहलीय (इक) ।

वहा देखो वह = वध ।

वहाय सक [वाह्य] वहन कराना । कर्म वहाविज्जइ (श्रावक २५८ टी) ।

वहाविअ वि [वधित] मरवाया हुआ (खा २४) ।

वहाविअ देखो पहाविअ (से ६, १) ।

वहिअ वि [व्यथित] पीडित (पचा ५, ४४) ।

वहिअ वि [ऊढ] वहन किया हुआ (घाल्वा १५२) ।

वहिअ वि [वधित] जिसका वध किया गया हो वह (श्रावक १७०, पउम ५, १६५, विपा १, ५, उव, वा २३, २४) ।

वहिअ वि [दे] अवलोकित, निरीक्षित, 'तेलोकवहियमहियपूइए' (उवा) ।

वहिइअ देखो वहइअ (पड) ।

वहिचर अक [व्यभि + चर्] १ पर-पुरुष या पर स्त्री से सम्भोग करना । २ सक. नियम-भंग करना । वक्क वहिचरत (स ७११) ।

वहिचार पु [व्यभिचार] १ पर-स्त्री या पर-पुरुष से सम्भोग (स ७११) । २ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक हेतु-बोध (धर्मस ६३) ।

वहिज्जत देखो वद = वध् ।

वहिया स्त्री [दे] वही, जिसका लिमने की कितान (सम्मत १४२, सुपा ३८५, ३८६, ३८७, ३६१) ।

वहियाली देखो वाहियाली, गुहज्जण-संविदियवहियालि नेइ तं निवइ' (धर्मवि ४) ।

वहिलग पु [दे वहिलक] ऊँट, बैल भादि पशु (राज) ।

वहिल वि [दे] शीघ्र, शीघ्रता-युक्त, गुजराती में 'वहेलो' (ह ४, ४२२, कुमा, वज्जा १२८) ।

वहु पुत्री [दे] विविडा गन्ध-द्रव्य विशेष (दे ७, ३१) ।

वहु देखो वहू (हे १, ४ पड, प्राप्र) ।

वहुधारिणी स्त्री [दे] नवोढा, दुलहिन (दे ७, ५०) ।

वहुण्णो स्त्री [दे] ज्येष्ठ-भार्या, पति के बड़े भाई की बहू (दे ७, ४१) ।

वहुमास पु [दे] रमण-विशेष, क्रीडा विशेष, जिसमें खेलता हुआ पति नवोढा के घर से बाहर नहीं निकलता है (दे ७, ४६) ।

वहुरा स्त्री [दे] शिवा, सिमारि (दे ७, ४०) । वहुलिआ (अप) स्त्री [वधुटिका] अल्प वय वाली स्त्री, वहुरिया (पिग) ।

वहुन्वा स्त्री [दे] छोटी सात (दे ७, ४०) । वहुहाडिणी स्त्री [दे] एक स्त्री के रहते हुए ब्याही जाती दूसरी स्त्री (दे ७, ५०, पड) ।

वहु स्त्री [वधू] बहू, भार्या, नारी (स्वप् ४२, पाय, हे १, ६) ।

वहोल पु [दे] छोटा जल-प्रवाह, गुजराती में 'वहेलो' (दे ७, ३६) ।

वहोलिया स्त्री [दे] देखो वहोल (चउपाप्र ० पत्र २१४) ।

वा सक [वा] गति करना, चलना । वद (से ६, ५२, गा ५६३, कुमा) ।

वा अक [वै, व्ले] सूचना । वाद (से ६, ५२, ह ६, १८) ।

वा सक [वने] बुनना । क्व वाइम, 'मपिम पूरिमवेदिमवाइमसप्राइम वेज्ज' (धनि २) ।

वा अ [वा] इन अथवा का सूचक अर्थ— १ विकल्प, अथवा. या (प्राप्त, कुमा) । २ समुच्चय, और, तथा (उत्त ८, १२, मुग ८, १२) । ३ अर्थों में (कुमा, कप, युग ५, २२) । ४ अथवाए, अथवा (अ ८) ।

५ सादर, समानता (विमे १८६६) । ६

विओरमण न [व्युपरमण] विराधना, विनाश, 'छक्कायविओरमण' (श्रीधमा १६०, श्लोक ३२६)।
 निओल नि [ने] 'निनि', जेजे वुक्त (दि ७, ६३)।
 विओवाय पु [व्यवपात] अश, नाश (आचा, सुप्र १, ३, ४, ४)।
 निओसग्न पु [व्युदरार्ण] १ परित्याग । २ तप-विशेष, निरोहण से शरीर आदि का त्याग (श्लोक)।
 विओसमण देखो विउसमण (पण्ह २, २—पत्र ११८, २, ५—पत्र १४६)।
 विओसभिय वि [व्यवशामित] उपशान्त किया हुआ (कम ६, १ टि)।
 विओसरणया देखो विउसरणया (श्लोक)।
 विओसव सक [व्यव + शमय] उपशान्त करना, ठण्डा करना, दवा देना । सक, 'त महिगरण अ-विओसवेत्ता' (कस)।
 विओसविय } देखो विओसमिय, 'अवि-
 विओसविय } श्रोतवियपाहुडे' (कस १, २५, ४, ५), 'विओसविय वा पुणो ज्वेरित्तए' (कस ६, १, ४, ५ टि)।
 विओसिज्जा अ [व्युत्तज्य] परित्याग कर (आचा १, ६, २, १)।
 विओसिय वि [व्यवसित्त] पयंसित्त, समाप्त किया हुआ (सुप्र १, १, ३, ५)।
 विओसिय नि [विओसित] कोश-रहित, निरावरण, नंगा, 'विउ(ओ)सियवरसि—' (पण्ह १, ३—पत्र ४५)।
 निओसिर देवा जिऊसिर (पि २३५)।
 विओध पु [विओध] जागरण, जागृति (वि)।
 निउ न [दे] जाय विशेष (राज)।
 निविणिय नि [दे] १ पाटित्त, विचारित । २ धारा (२७, ६३)।
 निउय पु [पुट्टिक] जन्तु-विशेष, निउ (हे १ १२८ २ १६, ८६)।
 निउ मण [न + नट] प्रणव होना । विउ (आए ७१)।
 निउय १ देवा निउअ (हे १, २६, २, निउय १ १३ सुग ३६, १८८, पडम ३६, ११, प्राप्र, प्राहु २३, गा २३-अ)।

विजण देखो वजण, 'तेतीसविजणयाइ' (चड)।
 विजण देखो विअण = व्यजन, गुजराती में 'विजणो' (रभा २०)।
 निउ पु [निउ] १ पत्ता निउय, विउयाचता (गा ११५, छाया १, १—पत्र ६४)। २ व्याघ्र, बहेलिया (हे १, २५, २, २६, प्राप्र)। ३ एक जैन मुनि (विसे २५१२)। ४ एक श्रेष्ठ-पुत्र (सुपा ५७८)।
 विउ सक [वेष्टय] वेष्टन करना, लपेटना, गुजराती में 'विउवु', 'विउइ त उज्जाणो ह्यगपरहहुडकोडोहि' (सुपा ५७३)। प्रयो, सक विटाविउ (सुपा १८६)।
 विउ न [वृन्त] फल-पत्र आदि का बन्धन (हे १, १३६, प्राहु ४, रभा, प्रासू १०२)।
 विउल } न [दे] १ वशीकरण-विद्या,
 विउलिअ } 'असाहपि कुडलवि(उलवि)-
 टलाइ करलाववाइ कम्माइ' (सिरि ५७)।
 २ निमित्त आदि का प्रयोग (वृह १), 'विउलि-
 आणि पउजति' (गच्छ ३, १३)।
 विउलिआ ली [दे] गठरी, पोटली, गुजराती में 'विउवु', 'ताव कुमरेण खिता तणुरया वस्थविउलिया', 'तीए विउलियाए' (सुपा २६१)।
 विउटिया ली [दे] १ गठरी, पोटली (सुल २, ५, उप १४२ टी)। २ मुद्रिका, श्रुण्णीयक, गुजराती में 'बीटी', 'उच्चारोवरि मुक्का कणयमवविउटिया निघटा' (सुपा ६११), 'पडिवन्नाओ मणिविउ(उटि)याहि तह अणु-
 लीओ ति' (स ७६)।
 विउतर पु [उयन्तर] १ विउल आदि वृष्ट जन्तु (उप ५६४), 'डुड्राण को न बीहव विउतर-
 सप्पाण व खलाए' (वजा १२)। २ एक देव-जाति, 'निमुसगाए नराए हि विउतरा अवि किकरा' (आ १२, ६ २)।
 विउतागी ली [वृन्ताली] बेंगन का गाछ विउ नक [विउ] १ जानना । २ प्राप्त करना, 'धम्म च जे विउति तथ तथ' (सुप्र १, १४, २७)। वहु विउमाण (छाया १, १—पत्र २६, विपा १, २—पत्र ३८)।
 विउ देवो वद = वृन्द (भवि, पि ३६८)।
 निदारण । देखो वदारण (सुपा ५०३, नाट—
 विदारण १ शकु ८८)। 'वर पु [वर] इन्द्र (सम्मत ७५)।

विदावण पुंन [वृन्दावन] मथुरा का एक वन (ती ७)।
 विदुसिह नि [दे] १ उज्ज्वल, देदीप्यमान । २ मज्जल घोषनाता, दज-कठ । ३ विद्राण-
 म्बान । ४ विस्तृत, 'घटाहि विदुरिह्लापुर-
 तवणीविमाणाणुसार लहती' (कप्पु)।
 विद्र देखो वद्र (प्राहु ३६)।
 विद्रावण देखो विदावण (प्राहु ३६)।
 विध सक [व्यध] बोधना, छेदना, वेधना ।
 विधइ, विधेजा (पि ४८६, भग)। वहु-
 विधत (सुर २, ६३)। सक, विधिअ
 (नाट—मूच्छ २१३)। हेहु विधिउ (स
 ६२)। छ, विधेयव्व (सुपा २६६)।
 विधण न [व्यघन] छेदन, वेधना; 'लक्ख-
 विधण'—(धर्मवि ५२)।
 विधिअ नि [विद्ध] जो वेधा गया हो वह,
 विद्ध (सम्मत १५८)।
 विभय देखो विम्हय = विस्मय (भवि)।
 विभर देखो विम्हर । विभरइ (पि ३१९)।
 विभल नि [विह्वल] व्याकुल, धवडाया
 हुआ; 'विसविभल' (उप ५६७ टी, सुप्र ६०,
 ५६८; भवि; श्लोक ७३)।
 विभिअ वि [विस्मित] आश्चर्य-चकित
 'ओधुणइ दीवओ विभ (विभि)ओ ज्व पवणा-
 हुओ सीस' (वज्जा ६६, भवि)।
 विभिअ देखो विअभिअ, 'सोहग्गविभियासाए'
 (वज्जा ८६)।
 विसदि (शौ) ली [विशति] बीष, २०
 (प्रयौ २०)।
 विकथ सक [वि + कथ] प्रशंसा करना ।
 विकथइजा (सुप्र १, १४, २१)।
 विकप अक [वि + कप्प] हिल जाना,
 चलित होना । वहु विकपमाणो (सुप्र १,
 १४, १४)।
 विकप सक [वि + कप्पय] १ हिलाना,
 चलाना । २ त्याग करना, छोड़ना । ३ अपने
 मज्जल से बाहर निकलना । ४ भीतर प्रवेश
 करना । विकपइ (सुज्ज १, १)। सक
 विकपइत्ता (सुज्ज १, ६)।
 विकप वि [विकम्प] कम्प, हिलन (पचा
 १८, १५)।

वाउल्ल वि [दे] वातूल] वाचाट, प्रलाप-शील, ककवादी (दे ७, ५६, पाय, पड्)

वाउल्लअ पुन [दे] पूतला, गुजराती मे 'वावल्लु', 'आलिहिअभित्तिवाउल्लओ व्व एण परम्मुह ठाइ' (गा २१७), 'आलिहिअभित्ति-वाउल्लय व न परम्मुह ठाइ' (वजा १४)।

वाउल्लआ } ली [दे] देखो वाउल्लया,
वाउल्ली } वाउल्ली: 'आलिहिअभित्तिवाउ-
ल्लअ व्व एण समुहं ठाइ' (गा २१७ अ, दे ६, ६२)।

वाऊल्ल देखो वाउल्ल = वातूल, 'अभिवायण-वाऊलो हसिअए नयरलोएण' (धर्मवि १११, प्राक ३०)।

वाऊल्ल देखो वाउल्ल = व्याकुल (प्राक ३०)।

वाऊल्लिअ वि [वातूलित] १ वातूल बना हुआ । २ नास्तिक (दसनि १, ६६)।

वाए सक [वाद्य] बजाना । वाएइ (महा) । वळ वाएत (महा) । कवक वाइज्जत (कुप्र १६) । हेऊ वाइउ (महा) ।

वाए सक [वाचय] १ पढाना । २ पढना । वाएइ, वाएति (भग, कप्प) । कवक, वाइ-ज्जत (सुपा ३३०, कुप्र १६)।

वाएरिअ-वि [वातेरित] पवन-प्रेरित, हवा से हिलाया या कँपाया हुआ (गा १७६)।

वाएसरी ली [वागीश्वरी] सरस्वती देवी, 'वाएसरी पुव्यवगहल्या' (पडि, सम्मत २१५)।

वाओलि } ली [वातालि, ली] पवन-
वाओली } समूह, 'कि अयलो चात्तिअइ पयडवाउ (? ओ) लिसएहिदि' (धर्मवि २७, गउड, एगया १, १—पत्र ६३)।

वाक } देखो वक्क = वक्क (श्रीप, विसे ६७,
वाग } विपा १, ६—पत्र ६६)।

वागड पु [वागड] गुजरात का एक प्रान्त, जो आधकल भी 'वागड' नाम से ही प्रसिद्ध है (कुप्र ६)।

वागडिअ वि [व्याकृत] प्रकट किया हुआ (वय १)।

वागर सक [व्या + रु] प्रतिपादन करना, कहना । वागरेअ, वागरेअ (कप्प, वि ५०६)। वळ वागरमाण, वागरेमाण (सुर ७, ४१, सुपा ५११, ओप)। वळ वागरिआ (सम

७२) । हेऊ. वागरिउ, वागरिउए (कुप्र २३०, उवा)।

वागरण न [व्याकरण] १ कथन, प्रतिपादन, उपदेश (विसे ५५०, कुप्र २, परह १, १ टी) । २ निर्वचन, उत्तर (श्रीप, उवा, कप्प) । ३ शब्दशास्त्र (धर्मवि ३०, मोह २)।

वागरणि वि [व्याकरणिन्] प्रतिपादन करनेवाला (सम्म २)।

वागरणी ली [व्याकरणी] भाषा का एक भेद, प्रश्न के उत्तर की भाषा, उत्तर रूप वचन (ठा ४, १—पत्र १८३)।

वागरिय वि [व्याकृत] उक्त, कथित (उवा, अत ६, उप १४२ टी, पव ७३ टी) । देखो वायड = व्याकृत।

वागल न [वल्कल] वृक्ष की छाँल (एगया १, १६—पत्र २१३)।

वागल वि [वाल्कल] वृक्ष की त्वचा—छाल से बना हुआ, 'वागलवत्यनियत्ये' (भग ११, ६—पत्र ५१६)।

वागली ली [दे] बल्ली-विशेष (पएण १—पत्र ३३)।

वागिल्ल वि [वाग्मिन्] बहु-भाषी, वाचाल (वव ७)।

वागुर पु [वागुरा] मृग वन्यन, जाल, फन्दा, 'रे रे रएह वागुरे' (मोह ७६)।

वागुरि } वि [वागुरिन्, रिक्] देखो
वागुरिय } वाउरिय, गुजराती मे 'वाघरी', 'सकयपसयरोहिण्य साहिति वागुरा (?री) ए' (परह १, २—पत्र २६, सुप्र २, २, ३६, विपा १, ८—पत्र ८३)।

वाघाइय वि [व्याघातिक्] व्याघात से उत्पन्न (ज ७—पत्र ५३२)।

वाघाइम वि [व्याघातिम] व्याघात मे होने-वाला (सुज १८—पत्र २६५) । २ न मरण-विशेष—सिंह, दावानल आदि से होने वाली मौत (श्रीप)।

वाघाय पु [व्याघात] १ स्खलना (सुज १८) । २ विनाश (उर ६७६) । ३ प्रतिव्यय, वक्रावट (भग, आधभा १८) । ४ सिंह, दावानल आदि से भ्रमिनन (श्रीप)।

वाघारिय वि [व्याघारित] प्रलम्ब, लम्बा (पना १८, १८, पव ६७)।

वाघुण्णिय वि [व्याघुणित] दोलायमान, डोलता (एगया १, १—पत्र ३१)।

वाघेल पु [दे] एक क्षत्रिय-वंश (ती २६)।

वाच देखो वाय = वाचय । कवक, वाचीअमाण (नाट—मालवि ६१) । वळ. वाचिऊण (हम्मोर १७)।

वाचय देखो वायग = वाचक (द्वय ४६)।

वाचिय देखो वाइअ = वाचित (स ६२१)।

वाज देखो वाय = व्याज (कुप्र २०१)।

वाजि पु [वाजिन्] अथ, घोडा (विपा १, ७)।

वाजीकरण न [वाजीकरण] १ वीर्य-बंधक श्रीपथ-विशेष । २ उसका प्रतिपादक शास्त्र, आयुर्वेद का एक अंग (विपा १, ७—पत्र ७५)।

वाड पु [वाट] १ वाड, कटक आदि से की जाती गृहादि की परिधि (उत्त २२, १४, माल १६५) । २ बाढा, बाडवाली जगह, वृत्तिवाला स्थान, 'निब्बाएणमहावाड साहरियं सगवेई' (उवा, गा २२७, दे ७, ५३ टि, गउड), 'अते सो साहूण गोवाडनिरोहण करेअण' (विचार ५०६) । ३ वृत्ति आदि से परिवेष्टित गृह-समूह, रथ्या, मुहल्ला (उत्त ३०, १८), 'अहो गरिणआवाडस्स सत्तिरोअभा' (वाप ७६)।

वाडतरा ली [दे] कुवेर, भोपडा या भापडो (दे ७, ५८)।

वाडग देखो वाड (पिड ३३८, विपा १, ४—पत्र ५५, उप पु २८६)।

'वाडण देखो पाडण, 'परदोहपट्टनाडएवंदण-हसत्तखणएणमुडाइ' (कुप्र ११३)।

वाडन पु [वाडय] वडवानन, समुद्र स्थित भ्रमिन् (सए)।

वाडहाणग पुन [वाटधानक] १ एक घाटा गाव । २ वि उन गाव का निवासी, 'वाड तेण वाडहाणगा हरिएमा पिउनाइया रया' (सुन ६, १, महा)।

वाडि देखो वाडा = वाटी (गा ८, एगया १, ७—पत्र ११६)।

वाडिआ ली [वाटिआ] बगीचा, उमरू, सएणरिआ' (गा ६, वाट ५२, दे ७, ३६, रंवा)।

विक्रत—विक्रखेवणी

विक्रत देतो विक्र ।

विक्रत वि [विक्रान्त] १ पराक्रमी, शूर (गाथा १, १—पत्र २१, विसे १०५६, प्राम् १०७, कप्प) । २ पु पहली नरक-भूमि का वारहवाँ नरकेन्द्रक—नरक-स्थान विशेष (देवेन्द्र ५) ।

विक्रति स्त्री [विक्रान्ति] विक्रम, पराक्रम (गाथा १, १६—पत्र २११) ।

विक्रम देवो विक्रमभ = विक्रम (देवेन्द्र ३६) ।

विक्रमण न [विक्रयण] विक्रय, वेचना (सुपा ६०६, सट्टि ६ टो) ।

विक्रम अक [वि + क्रम] पराक्रम करना, शूरता दिखलाना । भवि विक्रमिस्सवि (सौ) (पार्थ ६) ।

विक्रम पु [विक्रम] १ शौर्य, पराक्रम (हुमा) । २ सामर्थ्य (गडड) । ३ एक राजा का नाम (सुपा ५६६) । ४ राजा विक्रमादित्य (रमा ७) । १ जस पु [१ यशस] एक राजा (महा) । १ पुर न [१ पुर] एक नगर का नाम (सौ २१) । १ राम पु [१ राज] एक राजा (महा) । १ सेण पु [१ सेन] एक राज-कुमार (सुपा ५६२) । १ इच्च, इत्त पु [१ इत्त] एक सुप्रसिद्ध राजा (गा ४६४ अ सम्मत १४६, सुपा ५६२, गा ४६४) ।

विक्रमण पु [१] चतुर चालवाला घोडा (दे ७, ६८) ।

विक्रमि वि [विक्रमिन्] पराक्रमी, शूर (हुमा) ।

विक्रमि वि [विक्रमिन्] व्याकुल, वेचैन (पत्र १६६, प्राप्र, सबाय २१) ।

विक्रमयमाण देवा विक्र ।

विक्रि यो विक्रि, 'त नाणविक्रिणो पुण निचय्यतारा, न त मुण्णिणो' (सबोय १६) ।

विक्रि य वि [१] सन्तन, सुवारा हुमा (स ७, १३) ।

विक्रि न वि [विक्रित्त] छिल, काटा हुमा (पए १, ३—पत्र ५६) ।

विक्रिट्टे रो विक्रिट्टे (संबोध ५८) ।

विक्रि ग उर [वि + क्रि] वेचना । विक्रिणइ (प्राप्र) । वरं विक्रिणीमि वि (५४८) ।

वक्र विक्रिणंत, विक्रिणित (पि ३६७, सुपा २७६) । सक्क विक्रिणिअ (नाट—मूच्छ ६५) ।

विक्रिणिअ } वि [विक्रीत] देवा हुमा (सुपा विक्रिय } ६४२, भवि) ।

विक्रिय देखो विउव्य = वैक्रिय, 'कयविक्रियवो सुरो व्व लविक्रियसि' (सुपा १८७), 'कयविक्रिय-कापो देवुव्व' (सम्मत्त १०४) । विक्रि सक् [वि + कृ] बिलेरना, छितराना, फैलाना । कवक्क विक्रिणिज्जमाण (राय १४) ।

विक्रिरिया स्त्री [विक्रिया] विक्रित, विकार, 'तोए नयणाएएहि विक्रिरिय कुणइ' (सुपा ५१४) । देखो विक्रिरिया ।

विक्रीय देवो विक्रिय = विक्रीत (सुर ६, १६५, सुपा ३८५) ।

विक्रे सक् [वि + क्री] वेचना । विक्रेड, विक्रेअइ (हे ४, ५२, प्राप्र, धात्वा १५२) । क विक्रेज्ज (दे ६, ४०, ७, ६६) ।

विक्रेणुअ वि [१] विक्रेय, वेचने योग्य (दे ७, ६६) ।

विक्रेण पु [विक्रेण] विक्रयण, घृणा से मुँह सिकुडना (दे ३, २८) ।

विक्रोस सक् [वि + क्रुस्] चिल्लाना । विक्रोश (मा) (मूच्छ २७) ।

विक्रखम पु [१] स्थान, जगह (दे ७, ८८) । २ अतराल, बीच का भाग (दे ७, ८८ से ६, ५७) । ३ विवर, छिद्र (स ३, १४) ।

विक्रखम पुं [विक्रखम] १ विस्तार (पएण १—पत्र ५२, डा ४, २—पत्र २२६, दे ७, ८८, पाप्र) । २ चौडाई, 'जमुहीवे दीवे एग जोयणनहस धायामविक्रखमेण पएणत्ते' (सम २) । ३ बाहुल्य, स्थूलता, मोटाई (सुज १, १—पत्र ७) । ४ प्रतिबन्ध, निरोध (सम्यकत्त्वो ८) । ५ नाटक का एक अंग (कप्प) । ६ द्वार के दोनों तरफ के बीच का अन्तर (डा ४, २—पत्र २२५) ।

विक्रखभिअ वि [विक्रखभिअ] निब्ब, रोका हुमा (नम्यवत्त्वो ८) ।

विक्रखण न [१] पार्थ, काम, काज (दे ७, ६४) ।

विक्रखय वि [विक्रत] ब्रण-भुक्त, कृत ब्रण (भाग ७, ६—पत्र ३०७) ।

विक्रखर सक् [वि + कृ] १ छितरना, तितर-वितर करना । २ फैलाना । ३ इधर उधर फेंकना । विक्रखरइ (कप्प), विक्रखरेज्जा (उवा २०० टि) । कवक्क विक्रखरिज्जमाण (राज) ।

विक्रखवण न [विक्रपण] १ विनाश । २ वि विनाशक, 'वज्ज अरंअपडिवकखवण' (सुपा ४७) ।

विक्रखाइ स्त्री [विक्र्याति] प्रसिद्धि (भवि) । विक्रखाय वि [विक्र्यात] प्रसिद्ध, विश्रुत (पाप्र, सुर १, ४६, रमा, महा) ।

विक्रखास वि [१] विरूप, खराब, कुत्सित (दे ७, ६३) ।

विक्रखण वि [१] श्रायत, लम्बा । २ अवतीर्ण । ३ न जघन (दे ७, ८८) ।

विक्रखण देखो विक्रिण (कस) ।

विक्रिखत्त वि [विक्रिखत्त] १ फेंका हुमा (पाप्र, कस, गडड) । २ भ्रान्त, पागल, 'पसुत्तविक्रिखत्तणे परियणे' (उप ७२८ टो, दे १, १३३, महा) ।

विक्रिखर देखो विक्रखर । विक्रिखरेज्जा (उवा) ।

विक्रिखरिअ वि [विक्रीण] बिलरा हुमा, छितरा हुमा, फैला हुमा (सुर ५, २०६, सुपा २४६, गडड) ।

विक्रिखर सक् [वि + खिप्] १ दूर करना । २ प्रेरना । ३ फेंकना । विक्रिखरइ (महा) ।

विक्रिखवण न [विक्रिखवण] १ दूरीकरण । २ प्रेरणा (पत्र ६४) ।

विक्रखेव पुं [विक्रिखेव] १ क्षोभ, 'खोहो विक्रखेवो' (पाप्र) । २ उचाट, ग्लानि, खेद (से ५, ३) । ३ ऊँचा फेंकना, ऊँच-लेपण (शोवमा १६३) । ४ फेंकना, क्षेपण (गा ५८२) । ५ श्रु गार-विशेष, अन्नसा से किया हुमा मएडन (पएह २, ४—पत्र १३२) । ६ चित्त-अम (स २८२) । ७ विलव, देरी (स ७३५) । ८ सैन्य, लस्कर (स २४; ५७३) ।

विक्रखेवणी स्त्री [विक्रिखेवणी] कथा का एक भेद (डा ४, २—पत्र २१०) ।

हाथ, पैर आदि अथवा छोटे हो और छाती, पेट आदि पूर्यो या उन्नत हो वह शरीर (ठा ६—पत्र ३५७, सम १४६, कम्म १, ४०) । २ वि. उक्त आकार के शरीरवाला, ह्रस्व, खर्व (पत्र ११०, से २, ६, पात्र) । स्त्री ०णी (श्रौप, ख्याया १, १—पत्र ३७) । ३ पु श्रीहृष्य का एक अवतार (से २, ६) । ४ देव-विशेष, एक यक्ष-देवता (सिरि ६६७) । ५ न कर्म-विशेष, जिसके उदय से वामन शरीर की प्राप्ति हो वह कर्म (कम्म १, ४०) । ०थली स्त्री [०स्थली] देश-विशेष (ती १५) ।

वामणिअ वि [दे] नष्ट वस्तु—पलायित को फिर से ग्रहण करनेवाला (दे ७, ५६) ।

वामणिआ स्त्री [दे] दीर्घ काष्ठ की बाड़ (दे ७, ५८) ।

वामहण न [व्यामर्दन] एक तरह का व्यायाम, हाथ आदि अंगों का एक दूसरे से मोड़ना (ख्याया १, १—पत्र १६, कप्प, श्रौप) ।

वामरि पु [दे] सिंह, मृगेन्द्र (दे ७, ५४) ।

वामलूर पु [वामलूर] बल्मीक, वीमक (पात्र, गडड) ।

वामा स्त्री [वामा] भगवान् पार्वत्यापत्नी की माता का नाम (सम १५१) ।

वामिरस देखो वामीस (पत्रम ६३, ३६) ।

वामी स्त्री [दे] स्त्री, महिला (दे ७, ५३) ।

वामीस वि [व्यामिश्र] मिश्रित, युक्त, सहित (पत्रम ७२, ४, तडु ४४) ।

वामीसिय वि [व्यामिश्रित] ऊपर देखो (भवि) ।

वामुत्तय वि [व्यामुत्तक] १ परिहित, पहना हुआ । २ प्रबन्धित, सजका हुआ (श्रौप) ।

वामूढ वि [व्यामूढ] विमूढ, भ्रान्त (सुर ६, १२६, १२, १४३, सुपा ७०) ।

वामोह पु [व्यामोह] श्रुत, भ्राति (जप ५ ३२६, सुपा ६५, भवि) ।

वामोहण वि [व्यामोहन] भ्रान्ति-जनक (भवि) ।

वाय सक [वाच्य] १ पढना । २ पढाना । वाएइ, वाएसि (कुप्र १६६), 'सावक्का सुयणणणी पासव्या गहिय वायए चेह' (धर्मवि ४७), 'सुत्त वाए उवक्काओ' (सबोध २५) । वक्क वायत (सुपा २२३) । सक वाइऊण (कुप्र १६६) । क्क वायणिल्ल (ठा ३, ४) ।

वाय सक [वा] बहना, गति करना, चलना । वायति (भग ५, २) । वक्क वायत (पिड ८२, सुर ३, ४०, सुपा ४५०, दस ५, १, ८) ।

वाय अक [वै, म्लै] सूखना । वाअइ (ससि ३६, प्राप्र) । वक्क वायत (गडड ११६५) ।

वाय सक [वाद्य] बजाना । वक्क वायत, वायमाण (सुपा २६३, ४३२) । क्क वाइयच्च (स ३१४) ।

वाय वि [वान] शुष्क, सूखा, म्लान (गडड, से ५, ५७, पात्र, प्राप्र, कुमा) ।

वाय पु [दे] १ वनस्पति-विशेष (सुभ २, ३, १६) । २ न गन्ध (दे ७, ५३) ।

वाय पुं [वात] समूह, सघ (श्रा २३, भवि) ।

वाय वि [व्यात] सवरण करनेवाला (श्रा २३) ।

वाय वि [व्यागस्] प्रकृत अपराधी (श्रा २३) ।

वाय पुं [वाट] १ पवन, वायु । २ कपडा बुननेवाला, जुलाहा (श्रा २३) ।

वाय वि [व्याप] प्रकृत विस्तारवाला (श्रा २३) ।

वाय पु [वाक] ऋग्वेद आदि वाक्य (श्रा २३) ।

वाय पु [व्याय] १ गति, चाल । २ पवन, वायु । ३ पक्षी का आगमन । ४ विशिष्ट लाभ (श्रा २३) ।

वाय पु [व्याच] बंचन, ठगार्द (श्रा २३) ।

वाय पु [वाज] १ पक्ष, पैर । २ मुनि, ऋषि । ३ शब्द, भाषाज । ४ वेग । ५ न घृत, घी । ६ पानी, जल । ७ यज्ञ का वाक्य (श्रा २३) ।

वाय न [वाच] शुक-समूह (श्रा २३) ।

वाय वि [वाज्] १ कननेवाला । २ नाराक (श्रा २३) ।

वाय पु [व्याज] १ कपट, माया । २ बहाना, छल । ३ विशिष्ट गति (श्रा २३) ।

वाय देखो वाग = वल्क (विपा १, ६—पत्र ६६) ।

वाय पु [त्राय] विवाह, शादी (श्रा २३) ।

वाय पु [व्यात] विशिष्ट गमन (श्रा २३) ।

वाय पु [वाप] १ बपन, बोना । २ क्षेत्र, खेत (श्रा २३) ।

वाय पु [वाय] १ गमन, गति । २ वृषणा । ३ जातना, जाना । ४ इच्छा । ५ खाना, भक्षण । ६ परिणयन, विवाह (श्रा २३) ।

वाय वि [व्याद] विशेष ग्रहण करनेवाला (श्रा २३) ।

वाय वि [वाच्] वक्ता, बोलनेवाला (श्रा २३) ।

वाय पुं [वात] १ पवन, वायु (भग ख्याया १, ११, जो ७, कुमा) । २ उत्कर्ष (ज ५५ टि) । ३ पुन, एक देव-विमान (सम १०) । ०कत पुन [०शान्त] एक देव विमान (सम १०) । ०कम्म न [०कर्मन] भ्रान्त वायु का सरना, पादना, पाद, पदन (श्रोप ६२२ टी) । ०कूड पुन [०कूट] एक देव विमान (सम १०) । ०राध पु [०रध] पनवाड आदि वायु (ठा २, ४—पत्र ८६) । ०ऊरपुन [०ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

०णिसग्ग पु [०निसग्ग] भ्रान्त वायु का सरना, पदन (पडि) । ०पल्लिम्लोभ पुं [परिक्षोभ] कृष्णराजि, काले पुट्टा का रेशा (भग ६, ५—पत्र २७१) । ०पम पुन [०प्रम] देव-विमान विशेष (सम १०) । ०फलिह पु [०परिय] कृष्णराजि (भा ६, ५) । ०रुह पु [०रुह] वनस्पति मिश्र (परण १—पत्र ३६) । ०ठस्स पुन [०लेट्य] एक देव विमान (भा १०) ।

०वण्ण पुन [०वणी] एक देव-विमान (सम १०) । ०सिग पुन [०ट्टन] एक देव विमान (सम १०) । ०सिट्ट पुन [०मट्ट] एक देव-विमान (सम १०) । ०नत्त पुन [०नत्त] एक देव-विमान (सम १०) ।

वाय पु [वाट] १ तल्ल निवार, टरुका (श्रोपना १०, धर्मवि ८०, प्रा ६३) । २ चरि, पवन (श्रा २३) । ३ नाम, कर्म्म

हेळु विगिचिउ (पिंड ३६८) । कृ. विगिचियव्य (पि ५७०) ।

विगिचण न [विचेचन] परिष्ठापन, परित्याग (पिंड ४८३, कस) ।

विगिचणया } ली [विचेचना] १ निर्जरा,
विगिचणा } विनाश (ठा ८—पत्र
विगिचाणआ } ४४१) । २ परित्याग (शोधभा
२०६, स ५१, शोध ६०६, ८७) ।

विगिच्छा ली [विचिदित्मा] सदेह, सशय, वहम (श्रा ३, पडि) ।

विगिट्ट देखो विगिट्ट, 'अन्ने तव विगिट्ट काउ योवावसेससारा' (पत्रम २, ८३, ४, २७, गच्छ २, २५, उत ०६, २५३) । 'खमग पु [°क्षपक] तपस्वी साधु (राज) । °भक्तिय वि [°भक्ति] लगातार चार या उससे अधिक दिनो का उपवास करनेवाला (कप्य) ।

विगिय देखो विगि = विकृत (शोधभा २८६) ।

विगिला } अक [वि + ग्लै] विशेष ग्लान
विगिलाअ } होना, खिन्न होना । विगिलाइ,
विगिलाएजा (पि १३६, आना २, २, ३,
२८) ।

विगुण वि [विगुण] १ गुण-रहित (सिदि १२३३, प्राप्त ७१) । २ अननुगुण, प्रतिकूल (पचा ६, ३२) ।

विगुत्त नि [विगुत्त] १ तिरस्कृत, अवधोरित (आ १२) । २ जो घुला पड गया हो वह, जिनको पाल मुल गई हो वह, जिसकी फजी-हत हुई हो वह, 'सदुकर्याविगुत्तो' (आ १४, धर्मवि ७७) ।

विगुप्प° देखो विगोव ।

विगुव्यणा देतो विउव्यणा (ठा १—पत्र १६) ।

विगुव्यिय देखो विउव्यिअ (पत्रम ३६, ३२) ।

विगोइय नि [विगोपित] निचका दोप प्रकट किया गया है वह (सण) ।

विगोय त्त [वि + गोपन्] १ प्रकाशित करना । २ निरस्तार करना । ३ फजीहत करना । गी 'न गुन न गु चञ्चेवपुत्तगो नाहुं उइन्ति पवजिय सप्याण विगोविम्भं' (मं.ह १०) । ४ विगुप्पनु (धमवि १३८),

विगुप्पहि (अप) (भवि) । संकृ विगोवित्ता, विगोवइत्ता (कप्य, णाय १, १६—पत्र २४४) ।

विगोवण न [विगोपन] विकास, 'तहवि य दसिज्जती सोसमइविगोवणमदुद्धा' (धावक २२८) ।

विगगह पु [विग्रह] १ वक्रता, बाँक (ठा २, ४—पत्र ८६) । २ शरीर, देह (पाग्र, स ७२६, सुपा १६) । ३ युद्ध, लड़ाई (स ६३४) । ४ समास आदि के समान अर्थवाला वाक्य (विसे १००२) । ५ विभाग (ठा १०) । ६ आकृति, आकार, 'वरवइरविगगहए' (भग २, ८) । 'गइ ली [°गति] बाँकवाली गति, वक्र गति (ठा २, १—पत्र ५५, भग) ।

विगगहिय वि [वैग्रहिक] शरीर के अनुरूप, 'विगगहिय उन्नयकुञ्जी' (परह १, ४—पत्र ७८) ।

विगगहीअ वि [विग्रहिक] युद्ध-प्रिय, 'जे विगगहीए अनायभासी' (सूअ १, १३, ६) ।

विगगाहा (अप) ली [विगाथा] छन्द-विशेष (पिग) ।

विगगुत्त वि [दे] व्याकुल किया हुआ (भवि) ।

विगगुत्त देखो विगुत्त (धर्मवि ५८, ६८) ।

विगोव देखो विगोव । सङ्क विगोवित्ता (कप्य, श्रौप) ।

विगोव पुं [दे] आकुलता, व्याकुलता (दे ७, ६४, भवि, वजा २३) ।

विगोवणया ली [विगोपना] १ तिरस्कार । २ फजीहत (उव) ।

विगघ पुन [विघ्न] १ अन्तराय, व्याघात, प्रतियव्य (सुपा ३६५, कुमा, प्राप्त ५४, १३५, कप्य, कम्म १, ६१, पड्) । २ कर्म-विशेष, आत्मा के वीर्य, दान आदि शक्तियो का घातक कर्म (कम्म १, ५२, ५३) । °कर वि [°कर] प्रतियव्य-कर्ता (कम्म १, ६१) । °ह वि [°व] विघ्न-नाशक (श्रु ७५) । °वह वि [°वह] विघ्नवाला (सुर १, ४३) ।

विगघर वि [विगृह] गृह-रहित, 'तह उगघर-विगघरनिरगणोवि न य इच्छिय लहइ' (णाय १, १० टो—पत्र १७१) ।

विगिघय वि [विघ्नित] विघ्न-युक्त (हम्मोर १४) ।

विगघुट्ट वि [विघुष्ट] चित्ताया हुआ (विपा १, २—पत्र २६) । देखो विघुट्ट ।

विघट्ट सक [वि + घट्टय] १ विद्युक्त करना । २ विनाश करना । विघट्टेइ (उव) ।

विघट्टण न [विघट्टन] विनाश (नाट) ।

विघडण देखो विहडण (राज) ।

विघत्थ वि [विघस्त, विग्रस्त] १ विशेष रूप से भक्षित । २ व्याप्त, 'वाहिविघत्थस्स मत्तस्स' (महा, प्राग्र) ।

विघर देखो विगघर (उव) ।

विघाय पु [विघात] विनाश (कुमा) ।

विघायग वि [विघातक] विनाश-कर्ता (धर्मस ५२६) ।

विघुट्ट न [विघुष्ट] विरूप आवाज करना (परह १, ३—पत्र ४५) । देखो विगघुट्ट ।

विघुम्म अक [वि + घूर्णय] डोलना । वक्क विघुम्ममाण (सुर ३, १०६) ।

विचक्खु वि [विचक्षुष्क] चक्षु-रहित, अन्वा (उप ७२८ टी) ।

विचक्खिया ली [विचर्चिका] रोग-विशेष, पामा (राज) ।

विचलिर वि [विचलित्] चलायमान होने-वाला (सण) ।

विचलिय वि [विचलित] चंचल बना हुआ (भवि) ।

विचार देखो विआर = वि + चारयू । विचारेंति (मृच्छ १०४) ।

विचारग वि [विचारक] विचार-कर्ता (रभा) । विचारण देखो विआरण = विचारण (कुप्र ३६७) ।

विचारणा देखो विआरणा = विचारणा (धर्मस ३०६) ।

विचाल न [विचाल] अन्तराल (दे ७, ८८) ।

विचिअ वि [विचित] चुना हुआ (दे ७, ६१) ।

विचित सक [वि + चिन्तय] विचार करना । विचितेइ (महा) । वक्क विचितेंत (सुर १२, १६६) । कृ विचितियव्य, विचितिज्ज (पंचा ६, ४६, द्रव्य ५०) ।

वार पु [वार] १ समूह, दूध (सुपा २१४, सुर १४, २४, सार्ध ४६, कुमा, सम्मत १७५) । २ अक्षर, वेला, दफा (उप ६२८, सुपा ३६० भवि) । ३ मूर्य आदि ग्रह से अधिकृत दिन, जैसे रविवार, सोमवार आदि (गा २६१) । ४ चौथा नरक का एक नरक-स्थान (ठा ६—पत्र ३६५) । ५ वारी, परिपाटी (उप ६४८ टी) । ६ कुम्भ, घडा (दस ५, १, ४५) । ७ वृक्ष-विशेष । ८ न. फल-विशेष (पण १७—पत्र ५३१) ।
 वारुणी स्त्री [वारुणी] वारागना, वेश्या (कुमा) । - जो वृषणी स्त्री [वृषणी] वही अर्थ (प्राक् १४) । तरुणी स्त्री [तरुणी] वही (सण) । वहु स्त्री [वहु] वही अर्थ (कुप्र ४४३) । विलया स्त्री [विलया] वही पूर्वोक्त अर्थ (कुमा, सुपा ७८, २००) । विलासिणी स्त्री [विलासिणी] वही (कुमा, सुपा २००) । रुद्री स्त्री [रुद्री] वही अर्थ (सुपा ७६) ।
 वार न [वार] दरवाजा (प्राक् २६, कुमा, गा ८८०) । वई स्त्री [वती] द्वारका नगरी (कुप्र ६३) । वाल पुं [पाल] दरवान, प्रतीहार (कुमा) ।
 वारत देखो वार = वार्यु ।
 वारवार न [वारवार] फिर फिर (से ६, ३२, गा २६४) ।
 वारग पु [वारक] १ वारी, क्रम (उप ६४८ टी) । २ छोटा घडा, लघु कलश (पिंड २७८) । ३ वि निवारक, निषेधक (कुप्र २६, धर्मवि १३२) ।
 वारडिय न [दे] रक्त वस्त्र, लाल कपडा (गच्छ २, ४६) ।
 वारडु वि [दे] अभिपीडित (पड्) ।
 वारण न [वारण] १ निषेध, रोक, अटकाव, निवारण (कुमा, श्लो ४४८) । २ छत्र, छाता, 'वारणश्चाभेरोहिं नज्जति फुड मत्त-सुहृदा' (सिरि १०२३) । ३ वि. रोकनेवाला, निवारक (कुप्र ३१२) । ४ पु हाथी (पाम्, कुमा, कुप्र ३१२) । ५ छन्द का एक भेद (पिग) ।
 वारण देखो वागरण (हे १, २६८, कुमा, पड्) ।

वारणा स्त्री [वारणा] निवारण, अटकाव (वृह १) ।
 वारत्त पु [वारत्त] १ एक अन्तकृद् मुनि (अंत १८) । २ एक ऋषि (उव) । ३ एक प्रमात्य । ४ न एक नगर (धम्म ६ टी) ।
 वारवाण पु [वारवाण] कञ्जुक, चोली (पाम्) ।
 वारय देखो वारग (रभा, ग्याया १, १६—पत्र १६६, उप पु ३४२, उवा, अत) ।
 वारसिआ स्त्री [दे] मल्लिका, पुष्प-विशेष (दे ७, ६०) ।
 वारसिय देखो वारिसिय, 'वारसियमहादाय' (सुपा ७१) ।
 वारा स्त्री [वारा] १ देवी, विलम्ब, अम्मो किमज कज्ज ज लग्गा एत्तिया वारा' (सुपा ४५६) । २ वेला, दफा, 'तो पुणरवि निज्जायइ वाराओ दुल्लि तिन्नि वा जाव' (सट्टि ६ टी), 'कह महई वाराणिग्गयस्स' (विजुवानन्द) ।
 वाराणसी देखो वाणारसी (अन्त, पि ३५४) ।
 वाराधिय वि [वारित] जिसका निवारण कराया गया हो वह (कुप्र १४०) ।
 वाराह पु [वाराह] १ पंचवे वलदेव का पूर्वभवोय नाम (सम १५३) । २ वि शूकर के सदृश (उवा) ।
 वाराही स्त्री [वाराही] १ विद्या-विशेष (पत्रम ७, १४१) । २ वराहमिहिर का वनाया हुआ एक ज्योतिष-ग्रन्थ, वराह-सहिता (सम्मत १२१) ।
 वारि न [वारि] १ पानी, जल (पाम्, कुमा, सण) । २ स्त्री हाथी को फंसाने का स्थान, 'वारो करिघरण्ण' (पाम्, स १७७, ६७८) । ३ भद्रग पु [भद्रक] भिक्षुक की एक जाति, शैवलाशो भिक्षुक (सुधनि ६०) । ४ मय वि [मय] पानी का वना हुआ । स्त्री. 'ई (हे १, ४, पि ७०) । ५ सुअ पु [सुव] भेध, जलघर (पड्) । ६ य पु [य] पानी देनेवाला श्रृंग (स ७४१) । ७ रासि पुं [राशि] समुद्र, सागर (सम्मत १६०) । ८ वाह पु [वाह] भेध, अन्न (उप २६४ टी) । ९ सेण पुं [सेण] १ एक अन्तकृद् महर्षि, जो राजा वसुदेव के पुत्र थे

श्रीर जिन्होंने भगवान् अश्विनेमि के पास वीक्षा ली थी (अन्त १४) । २ एक अनुतर-गामी मुनि, जो राजा श्रेणिक के पुत्र थे (अनु १) । ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चौबीसवें जिनदेव (सम १५३) । ४ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा (पत्र ५६, महा) । 'सेणा स्त्री [सेणा] १ एक शाश्वती जिन प्रतिमा (ठा ४, २—पत्र २३०) । २ अश्वलोक में रहने-वाली एक विक्रुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७, इक २३१ टि) । ३ एक महानदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१, इक) । ४ ज्वालोक में रहनेवाली एक विक्रुमारी देवी (इक २३२) । ५ हर पु [वर] भेध (गठव) ।
 वारिअ पु [दे] हजाम, नापित (दे ७, ४७) ।
 वारिअ वि [वारित] १ निवारित, प्रतिषिद्ध (पाम्, से २, २३) । २ वेदित (से २, २३) ।
 वारिआ स्त्री [वारिका] छोटा दरवाजा, वारी (ती २),
 'वप्पस्स चा(वा)रियाए परिखितो वाइयमण्णे'
 'जो जलपुरियविट्ठाकूवाओ चा(वा)रियाइ निक्कासे । सो उवचियगम्भाओ जोणीए निग्गो इव' (धर्मवि १४६) ।
 वारिज्ज पुन [दे] विवाह, शादी (दे ७, ५५, पाम्, उप पु ८०) ।
 वारिसा देखो वरिसा (विक्र १०१) ।
 वारिसिय वि [वारिक] १ वप-सक्वो (राज) । २ वर्ष-सक्वो, 'चिट्ठे चउरो मात्ता वारिसिया विवुहपरिमहिओ' (पत्रम ८२, ६५) ।
 वारी स्त्री [वारिका] वारी, छोटा दरवाजा (ती २) ।
 वारी स्त्री [वारी] देखो 'वारि' का दूसरा अर्थ, 'वद्धो वारीवधे फासेण गम्भो निहण' (सुर ८, १३६, श्लो ४४६ टी) ।
 वारी न [वारि] जल, पानी (हे १, ४, पि ७०) ।
 वारुअ न [दे] १ शीघ्र, जल्दी । २ वि. शीघ्रता-युक्त, 'य वाक्खा म्हे' (दे ७, ४८) ।

विच्छित्ति ङी [विच्छित्ति] १ विन्यास, रचना (पात्र, स ६१५, सुपा ५४, ८३, २६०, गउड)। २ प्रान्त भाग (सुर ३, ७०)। ३ अगाराग (गा ७८०)।

विच्छिन्न दवा विच्छिण्ण (विपा १, २ टी—पत्र २८)।

विच्छिव सक [वि + स्पृश] विशेष रूप से स्पर्श करना। कवक विच्छिप्पमाण (कप्प, श्रौप)।

विच्छिव सक [वि + क्षिप्] फेंकना। सक विच्छिविग्र (नाट—वैत ३८)।

विच्छु) देखो विंचुअ (गा २३७, जी विच्छुअ) १८, उक्त ३६, १४८, प्रासू १६, णाया १, ८—पत्र १३३)।

विच्छुडिअ वि [विच्छुटित] १ विच्छुडा हुआ, जो अलग हुआ हो, विरहित, 'जहवि हु कालवसेण ससो समुदाओ कहवि विच्छु (7न्नु)डिमो' (वज्जा १५६)। २ मुक्त (राज)।

विच्छुरिअ वि [दे] अपूर्ण, अदभुत (पइ)। विच्छुरिअ वि [विच्छुरित] १ खचित, जडा हुआ, 'खचिअ विच्छुरिअय जडिअ' (पात्र)। २ सबद, जोडा हुआ (से १४, ७६)। ३ व्याप्त (पउम २, १०१, सुपा ६, २१२, सुर २, २२१)।

विच्छुह सक [वि + क्षिप्] फेंकना, दूर करना। विच्छुह (से १०, ७३, गा ४२४ म)। ४ विच्छुहव (से १०, ५३)।

विच्छुह अक [वि + क्षुम्] विक्षोभ करना, चपल हो उठना। विच्छुहिरे (हे ३, १४२)।

विच्छुड वि [विक्षिप्त] १ फेंका हुआ, दूर किया हुआ (न ६, १६)। २ प्रेरित (पात्र)।

विच्छुड वि [दे] निपुन, विरहित, विषटित, 'विच्छुड ज्ञाओ' (न ६०८)।

विच्छुडव्य दना विच्छुह = वि + क्षिप्।

विच्छेअ पु [दे] १ निलाम। २ जघन (दे ७, ६०)।

विच्छेअ पु [विच्छेद] १ विनाग, पुवहरण (वि १००६)। २ वियोग (गा ६१३)। ३ अनुव्य विनाय, प्रनाद-निरोध (कप्प)।

विच्छेअ न [विच्छेदन] ऊपर देखो (रा)।

विच्छेअय वि [विच्छेदक] विच्छेद-कर्ता (भवि)।

विच्छेइ वि [विच्छेदिन्] ऊपर देखो (कुप्र २२)।

विच्छेइअ वि [विच्छेदित] विच्छिन्न किया हुआ (नाट—विक्र ८२)।

विच्छोइय वि [दे] विरहित (भवि)।

विच्छोड देवो विच्छोल। सक विच्छोडिवि (अप) (हे ४, ४३६)।

विच्छोम पु [दे विदर्भ] नगर-विशेष, 'विदर्भे विच्छोमो' (प्राक ३८)।

विच्छोय पु [दे] विरह, वियोग (भवि)। देखो विच्छोह।

विच्छोल सक [कम्पय] कँपाना। विच्छोल-लइ (हे ४, ४६)। वक, विच्छोलंटा, विच्छोलित (कप्प, सुर १०, १०७, १५, १३)।

विच्छोलिअ वि [कम्पित] कँपाया हुआ (कुमा, गउड)।

विच्छोलिअ वि [विच्छोलित] धौत, धोया हुआ, 'धोअ विच्छोलिअ' (पात्र)।

विच्छोव सक [दे] वियुक्त करना, विरहित करना,

'कालेण रुढपेमे परोप्पर
हिययनिव्वडियभावे।
अकलुणहियओ एसो
विच्छोवइ सत्तसंधाए'
(स १८६)।

विच्छोह पु [दे] विरह, वियोग (दे ७, ६२, हे ४, २६६)।

विच्छोह पु [विक्षोभ] १ विक्षेप, 'जे समु-हागअवोलतवल्लिअपिअपेसिअच्छिविच्छोहा' (गा २१०), 'पुलइयकवोलमूला विमुक्कडक्ख-विच्छोहा' (सम्मत्त १६१)। २ चचलता (उप ५ १५८)।

विच्छल सक [वि + छल्य] छलित करना, ठगना। कम् विच्छलिअइ (महा)।

विच्छोय देखो विच्छोव। विच्छोयइ (स १८६ टि)।

विजइ वि [विजयिन्] विजेता, जीतनेवाला (कप्प, नाट—विक्र ५)।

विजभ देखो विअभ = वि + जम्भ्। वक, विजभत (काप्र १८६)।

विजढ वि [वित्तक्त] परित्यक्त (उत्त ३६, ८३, सुख ३६, ८३, ओष २४६)।

विजण देखो विअग = विजण। 'लक्खण ! देसो इमो विजणो' (पउम ३३, १३, हे १, १७७, कुमा)।

विजय सक [वि + जि] १ जीतना, फतह करना। २ अक उत्कर्ष में वर्तना, उत्कर्ष-युक्त होना। विजयइ (पव २७६—गाथा १५६६), 'विजयतु ते पएसा विहरेइ जत्थ वीरजिणनाहो' (धर्मवि २२)। क, विजेतव्य (वे) (कुमा)।

विजय पु [विजय] १ निर्णय, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान-पूर्वक निश्चय (ठा ४, १—पत्र १८८, सुज १०, २२)। २ अनुचिन्तन, विमर्श (श्रौप)।

विजय पुं [विजय] आश्रय, स्थान (दस ६, ५६)।

विजय पु [विजय] १ जय, जीत, फतह (कुमा, कम्म १, ५५, अग्नि ८१)। २ एक देव-विमान (अनु, सम ५७, ५८)। ३ विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६)। ४ एक मुहूर्त, आहोरात्र का बारहवां या सतरहवां मुहूर्त (सम ५१, सुज १०, १३, कप्प, णाया १, ८—पत्र १३३)। ५ भगवान् नमिनायजी का पिता (सम १५१)। ६ भारतवर्ष के वीसवें भावी जिनदेव (सम १५४, पव ४६)। ७ तृतीय चक्रवर्ती के पिता का नाम (सम १५२)। ८ आश्विन मास (सुज १०, १६)। भारतवर्ष में उत्पन्न द्वितीय बलदेव (सम ८४, १५८ टी, अनु, पव २०६)। १० भारतवर्ष का भावी दूसरा बलदेव (सम १५४)। ११ ग्यारहवें चक्रवर्ती राजा का पिता (सम १५२)। १२ एक राजा (उप ७६८ टी)। १३ एक क्षत्रिय का नाम (विपा १, १—पत्र ४)। १४ भगवान् चन्द्र-प्रभ का शासन-देव (सति ७)। १५ जवू-द्वीप का पूर्व द्वार। १६ उस द्वार का अधिष्ठाता देव (ठा ४, २—पत्र २२५)। १७ लवण समुद्र का पूर्व द्वार। १८ उस द्वार का अधिपति देव (ठा ४, २—पत्र

वाचड पु [दे] कुडुम्बी, क्लान (दे ७, ५४) ।
 वाचड वि [व्यापृत] १ व्याकुल (दे ७, ५४ टी) । २ किमी कार्य मे लगा हुमा (हे १, २०६, प्राप्र, कस, सुर १, २६) ।
 वाचड वि [व्यावृत्त] लौटाया हुमा, वापस किया हुमा (उप ५३४) ।
 वाचडम वोन [दे] विपरीत मैयुन (दे ७, ५८) । वी. ०या (पाप्र) ।
 वाचण न [व्यापन] व्याप्त करना (विसे ८६) ।
 वाचणग वि [वामनक] ङिगणो, ङिगना, बीना, छोटे वद का (चउप्यन० पन १६१) ।
 वाचणी वी [दे] छिद्र, विवर (दे ७, ५५) ।
 वाचण्य देखो वाचन्न (राया १, १२) ।
 वाचन्ति वी [व्यापत्ति] विनाश, मरण (राया १, ६—पत्र १६६, उप ५०६, स ३६५, ४३२, धर्मस ६३४, ६७६) ।
 वाचन्ति वी [व्यापृति] व्यापार (उप ५०६) ।
 वाचन्ति वी [व्यावृत्ति] निवृत्ति (ठा ३, ४—पत्र १७४) ।
 वाचन्न वि [व्यापन्न] विनाश-प्राप्त (ठा ५, २—पत्र ३१३, स २४१, सम्मत २८, स ६०) ।
 वाचय पु [दे] आयुक्त, गांव का मुखिया (दे ७, ५५) ।
 वावर अक [व्या + वृ] १ काम मे लगना । २ सक काम मे लगाना । वावरइ (हे ४, ८१), वावरइ (भवि), 'सय गिह परिचञ्च परिगिहम्मि वावरे' (उत्त १७, १८, सुख १७, १८) । वक. वावरंत (कुमा ६, ५१) । प्रयो, हेरु वावराविड (स ७६२) ।
 वावरण न [व्यापरण] कार्य मे लगाना (ननि) ।
 वाचड देखो वाचड = व्यापृत (उप पृ ८७) ।
 वाचड पुन [दे. वाचड] शछ-विशेष (सण) ।
 वाचहारिअ नि [व्यावहारिक] व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाला (इक. विसे ६५६, जीवस ६५) ।
 वावाअ (?) अक [अव + काय] अवकाश पाना, जगट प्राप्त करना । वावाअ (पाइआ १५२) ।

वावाअ सक [व्या + पादय] मार डालना, विनाश करना । वावाएइ (स ३१, महा) । कर्म. वावाइइइ, वावाइइइ (स ६७३), भवि वावाइइजिस्सइ (पि ५४६) । सकु वावाइऊण (स ७५५) । कृ वावाइयव्य (स १३५) ।
 वावाइअ वि [व्यापादित] मार डाला गया, विनाशित (सुपा २४१), 'अवावावि(?)ओ चव विउत्तो खु एसो' (स ४११) ।
 वावायग वि [व्यापादक] हिंसक, विनाशकर्ता (स २६७) ।
 वावायण न [व्यापादन] हिंसा, मार डालना, विनाश (स ३३, १०२, १०३, ६७५; सुर १२, २१६) ।
 वावायय देखो वावायग (स ७५०) ।
 वावार सक [व्या + पारय] काम मे लगाना । वक वावारंत (गउड २४४) । कृ वावारियव्व (सुपा १६२) ।
 वावार पु [व्यापार] व्यवसाय (ठा ३, १ टी—पत्र ११४, प्रासू ६१, १२१, नाट—विक्र १७) ।
 वावारण न [व्यापारण] कार्य मे लगाना (विसे ३०७१, उप पृ ७१) ।
 वावारि वि [व्यापारिन्] व्यापारवाला (से १४, ६६, हम्मोर १३) ।
 वावारिद (शौ) वि [व्यापारित] कार्य मे लगाया हुमा (नाट—शकु १२०) ।
 वावि अ [वापि] १ अथवा, या (पव ६७) । २ वी देखो वापी (पणह १, १—पत्र ८) ।
 वावि वि [व्यापिन्] व्यापक (विसे २१५, था २८४, धर्मस ५२५) ।
 वाविअ वि [दे] विस्तारित (दे ७, ५७) ।
 वाविअ वि [वापित] १ प्रापित, प्राप्त करवाया हुमा (से ६, ६२) । २ बोया हुमा: पुजरातो मे 'वावेडु', 'ज माओ पुजभने पम्मजोय वाविय तए जोर' (मादवहि ८: दे ७, ८६) ।
 वाविअ वि [व्याप्त] नरा हुमा (कुमा ६, ६५) ।
 वाविअ नि [व्यावृत्त] व्यावृत्तिगता, निवृत्त (धर्मस ३२१) ।

वाचित्ति वी [व्यावृत्ति] व्यावर्तन, निवृत्ति (धर्मस १०५) ।
 वाविद्व देखो वाइइ = व्यादिग्ध, व्याविड (ठा ५, २—पत्र ३१३) ।
 वाविरे देखो वावर । वाविरे (पड) ।
 वावो वी [वापी] चतुष्कोण जनारण स्थित (श्रोप, गउड, प्रामा) ।
 वावुड } (शौ) देखो वावड = व्यापृत (नाट-
 वावुद } मुचड २०१, पि २१८, चाव ६) ।
 वावोणय न [दे] विकीर्ण, बिखरा हुमा (दे ७, ५६) ।
 वावू (मा) वी [वासू] नाटक की नाय मे वाला (मुच्य २७) ।
 वास देखो वरिस = वृप् । वासति (मा) । भूका. वासिमु (कल्प) । कृ वासिउ (ठा ३, ३—पत्र १४१, पि ६२, ५७७) ।
 वास अक [वाश] १ तिर्यंचा का—सु पक्षियो का बोलना । २ प्राज्ञान करना, 'खोरदुमम्मि वासइ वासवो वायवा ननिप-पस्को' (पउम ५५, ३१), वासइ वासए (भवि, कुप्र २२३) । वक वासत (सुर २२३, ३८७) ।
 वास सक [वासय] १ संस्कार डालना । २ सुगन्धित करना । ३ वास लगाना । वासइ (भवि) । वक वासत, वासयन (श्रोप, कल्प) । ४ वासणिज्ज (पि १६७७, धर्मस ३२६) ।
 वास देखो वरिस = वर्य (सम २, कप, वा ३६, गउड, कुमा, भग ३, ६, सम १३, हे १, ४३, २, १०५, पड ६६ सुपा ६३) ।
 ०त्ताण न [०त्ताण] छन, छाजा (धर्म ३, शोष ३०) । १धर, १हर पृ [१धर] १.० विशेष (उवा ७६, २५३, ठा २, ३, धम १०, ६५) ।
 वास पु [वास] १ निराश, गना (पाप उप ५८६, कुमा, प्रासू ३८) । २ मुच्य (सुमा, भवि) । ३ मुच्यो इयसिद (गउड) । ४ मुच्यो सुपुं मिश्रक, ५ मुच्य वाससं विहा जेनाउ निद १.५७ ६०, ६१ २) । ६ मुच्यम गउड ५१ ०६ नाति (गण १—पत्र १०) । ७ मुच्य [मुच्य] शयन-भू (उवा ३, १६—पत्र

विज्ञल पु [विजल] १ नरकावास-विशेष, एक नरक स्थान (देवेन्द्र २८) । २ वि जल-रहित (नित्रु १) ।

विज्ञल } न [दे विजल] कर्म, पक,
विज्जुल } काँदी, कादा (आचा २, १, ५,
३, २ १८, २) ।

विज्ञलिया बी [विद्युत्] विजली (कुप २८५) ।

विज्ञा बी [विद्या] १ शास्त्र ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यग् ज्ञान (उत्त २३, २, एदि, धमवि ३६, कुमा, प्राप् ४३) । २ मन्त्र, देवी-अविष्टित अक्षर पद्धति । ३ साधनावाला मन्त्र (मिड ४६४, श्रौप ठा ३, ४ टी—पत्र १५६) । ४ अणुप्पवायन [अनुप्रवाद] जैन अग्र ग्रन्थाश विशेष, दसवाँ पूर्व (सम २६) । ५ चारण पु [चारण] शक्ति-विशेष-सपन्न मुनि (भग २०, ६—पत्र ७६३) । ६ चारणलट्टि बी [चारणलट्टि] शक्ति-विशेष (भग २०, ६) । ७ अणुप्पवाय देवो अणुप्पवाय (राज) । ८ अणुप्पवाय न [नुवाद] दसवाँ पूर्व (सिरि २०७) । ९ पिंड पु [पिण्ड] विद्या के बल से अर्जित भिक्षा (नित्रु १३) । १० मत वि [वत्] विद्या-सपन्न (उप ४२५) । ११ लय पुन [लय] पाठशाला (प्राभा) । १२ सिद्ध वि [सिद्ध] १ सर्व विद्याओं का अधिपति, सभी विद्याओं से सपन्न । २ जिसको कम से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुको हो वह, 'विज्जाण चण्टो विज्जामिदो न, जस्स वेगावि निज्जेज्ज महाविज्जा' (प्रावम) । ३ हर पु [हर] १ धर्मियों का एक वंश (पचम ५, २) । २ पुत्री जय वंश में उत्पन्न (महा) । ३ श्री (महा, उप) । ४ वि विद्या-धारी, शक्ति विशेष रूप (प्राग, राय, ज ४) । ५ हरगोत्र पु [हरगोत्र] एक प्राचीन जैन मुनि, जा एत्थित्यार मुत्रसिद्ध आचार्य ते किय्य धे (पण) । ६ हरी बी [हरी] एत जैन मुनि शापा (पण) । ७ हार (अप) न [हर] छन्द-विशेष (पिंग) ।

विज्ञावर (दा) देवा वेवावच (नवि) ।

विज्ञावर वि [विज्ञावर] विद्यावर-सन्धी, श्री 'एत्ता विज्ञावरो माया' (महा) ।

विज्ञिडिय देवो विज्जिडिय (राज) ।

विज्जु पु [विद्युत्] १ विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १८) । २ देवों की एक जाति, भवनपति देवों का एक भेद (परह १, ४—पत्र ६८) । ३ आमलकप्पा नगरी का निवासी एक गृहस्थ (खाया २—पत्र २५१) । ४ एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) । ५ बी ईशानेन्द्र के सोम आदि लोकपालों की एक-एक अग्रमहिषी—पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ६ चमर नामक इन्द्र की एक पटरानी (ठा ५, १—पत्र ३०२, खाया २—पत्र २५१) । ७ पुत्री विजली, 'विज्जुणा, विज्जुए' (ह १, ३३, कुमा, गा १३५) । ८ सन्ध्या, शाम (हे १, ३३) । ९ वि विशेष रूप से चमकनेवाला, 'विज्जुसोयामण्यभा' (उत्त २२, ७) । १० कार देवो यार (जीव ३—पत्र ३४२) । ११ कुमार पु [कुमार] एक देव-जाति (भग, इक) । १२ कुमारी बी [कुमारी] विदिरुचक पर रहनेवाली द्विकुमारी देवी, 'चत्तारि विज्जुकुमारिमहत्तरियाओ परणत्ताओ' (ठा ४, १—पत्र १६८) । १३ जिम्भ (?), जिम्भ पु [जिम्भ] अनुवेलघर नागराज का एक आवास पर्वत (इक, राज) । १४ तेअ पु [तेअस्] विद्याधरवंश का एक राजा (पउम ५, १८) । १५ दत्त पु [दत्त] १ एक अन्तर्द्वीप । २ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६) । ३ दत्त पु [दत्त] विद्याधरवंश का एक राजा (पउम ५, १८) । ४ दाढ पु [दद] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा का नाम (पउम ५, १८) । ५ पह, प्पभ, प्पह पु [प्रभ] १ एक वक्षस्कार पर्वत का नाग (सम १०२ टी, ठा २, ३—पत्र ६६, ५, २—पत्र ३२६, ज ४, सम १०२, इक) । २ कूट-विशेष, विद्युत्प्रभ वक्षस्कार का एक शिखर (ज ४, इक) । ३ देव विशेष, विद्युत्प्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत का अधिष्ठाता देव (ज ४) । ४ अनुवेलघर नागराज का एक आवास-पर्वत (ठा ४, २—पत्र २२६, इक) । ५ उस पर्वत का निवासी देव (ठा ४, २—पत्र २२६) । ६ देवकुह वष में न्यत एक महाद्रह (ठा ५, २—पत्र

३२६) । ७ न एक विद्याधर-नगर (इक ३२६) । ८ मई बी [मती] एक बी का नाम (परह १, ४—पत्र ८५) । ९ मालि पु [मालिन्] १ पचरौल द्वीप का अधिपति एक यक्ष (महा) । २ रावण का एक सुभट (से १३, ८४) । ३ ब्रह्मदेवलोक का इन्द्र (राज) । ४ मुह पु [मुख] १ विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, १८) । ३ एक अन्तर्द्वीप । ४ उसका निवासी मनुष्य (ठा ४, २—पत्र २२६, इक) । ५ मेह पु [मेघ] १ विद्युत्प्रधान मेघ, जल-रहित मेघ । २ विजली गिरानेवाला मेघ (भग ७, ६—पत्र ३०५) । ६ यार पु [कार] विजली करना, विद्युत्-रचना (भग २, ६) । ७ लआ, ल्या बी [लता] विद्युत्, विजली (नाट—वेणी ६६, काल) । ८ लहाइ न [लेखायित] विजली की तरह आचरण (कप्प) । ९ विलसिअ न [विलसित] १ छन्द-विशेष (अजि २१) । २ विजली का विलास (से ४, ४०) । ३ सिहा बी [शिखा] एक रानी का नाम (महा) ।

विज्जुआ बी [विद्युत्] १ विजली (नाट—वेणी ६६) । २ बलि नामक इन्द्र के सोम आदि चारों लोकपालों की एक-एक पटरानी, 'मित्तगा सुभहा विज्जुत्ता (? या) अमणी' (ठा ४, १—पत्र २०४, इक) । ३ धरणेन्द्र की एक अग्र-महिषी (खाया २—पत्र २५१, इक) ।

विज्जुआइत्तु वि [विद्युत्कर्तु] विजली करने-वाला (ठा ४, ४—पत्र २६६) ।

विज्जुला } देवो विज्जु = विद्युत् (हे २
विज्जुलिआ } १७३, पड् १६१, कुमा, प्राक्
विज्जुली } ३६, प्राप्, पि २४४) ।
विज्जु देवो विज्जु । माला बी [माला]
छन्द-विशेष (पिंग) ।

विज्जे अ [दे] १ मार्ग से, रास्ता से । २ लिए (भवि) ।

विज्जोअ पु [विद्योत] उद्योत, प्रकाश; 'जोव्वण जीविअ रुव विज्जुविज्जोअचंचल' (हित ६) ।

विज्जोइय } वि [विद्योतित] प्रकाशित,
विज्जोविय } चमका हुआ (उप ५ ३३, स ५७६) ।

विअड न [दे] १ प्रासुक जल, जीव-रहित पानी (सूत्र १, ७, २१, ठा ३, ३—पत्र १३८, ५, २—पत्र ३१३, सम ३७, उत २, ४, कप्प) । २ मद्य, दाख (पिड २३६) । ३ प्रासुक आहार, निर्दोष आहार, 'ज किंचि पावग भगवं त अकुच्च वियड भुजित्या' (आचा १, ६, १, १८), 'वियडग भोच्चा' कप्प) ।

विअड वि [विकृत] विकार-प्राप्त (आचा, उत २, ४, कस, पि २१६) ।

विअड वि [विकट] १ प्रकट, खुला (सूत्र १, २, २, २२, पचा १०, १८, पव १५३) । २ विशाल, विस्तीर्ण, '—अक्रोसायतपउम-गभीरवियडनामे' (उवा, औप, गा १०३, गडड) । ३ सुन्दर, मनोहर (गडड) । ४ प्रभूत, प्रचुर (सूत्र २, २, १८) । ५ पु एक ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८, सुज २०) । ६ एक विद्याधर-राजा (पउम १०, २०) । ७ भोइ वि [भोजिन्] प्रकाश मे भोजन करनेवाला, दिन मे ही भोजन करनेवाला (सम १६) । ८ वड, 'वाइ पु [पातिन्] पर्वत-विशेष (ठा ४, २—पत्र २२३, इक, ठा २, ३—पत्र ६६, ८०) ।

विअड अक [विकटय] विस्तीर्ण होना । वियडेइ (गडड ११६८) ।

विअडण खीन [विकटन] १ अतिचारो की आलोचना । २ स्वामिप्राय-निवेदन (पचा २, २७) । खी. णा (ओघ ६१३, ७६१, पिडभा ४१, श्रावक ३७६, पचा १६, १६) ।

विअडी खी [वितटी] १ खराब किनारा । २ अटवी, जगल (खाया, १ १—पत्र ६३) ।

विअड्ठि खी [वितदि] वेदिका, हवन-स्थान, वेदी, चौतरा (हे २, ३६, कुमा, प्राप्र) ।

विअड्ठ वि [विदग्ध] १ निपूण, कुशल । २ परिणत, विद्वान् (हे २, ४०, गडड, महा) ।

विअड्ठक वि [विरुपक] खीचनेवाला, 'महाधगुवियट्ट' ('ड्ड)का' (परह १, ४—पत्र ७२) ।

विअड्ठा खी [विदग्धा] नायिका का एक भेद (कुमा) ।

वियड्ठिम पृथी [विदग्धता] १ निपूणता । २ परिणत (कुप्र ४०५, वज्जा १३४) ।

विअण पुन [व्यजन] देना, पंखा (प्राप्र, हे १, ४६, परह १, १—पत्र ८) ।

विअण वि [विजन] निर्जन, जन-रहित, 'लघति वियणकाणए' (भवि) ।

विअणा खी [वेदना] १ ज्ञान । २ सुख-दुख आदि का अनुभव । ३ विवाह । (प्राप्र, हे १, १४६) । ४ पीडा, दुख, संताप (प्राप्र, गडड, कुमा) ।

विअणिय वि [वितनित, वितत] विस्तीर्ण (भवि) ।

विअणिय वि [विगणित] अनाहत, तिरस्कृत (भवि) ।

विअणय वि [विपन्न] मृत (गा ५४६) ।

विअण्ह वि [वितृष्ण] वृष्ण-रहित (गा ६३) ।

विअत्त सक [वि + वर्त्तय] घूम कर जाना । संक वियत्तूण, वियइत्ता, विउत्ता (आचा १, ८, १, २) ।

विअत्त वि [व्यक्त] १ परिष्कृत (सूत्र १, १, २, २५) । २ अग्रुध, विवेकी (सूत्र १, १, २, ११) । ३ बुद्ध, परिणत-व्यक्त, 'सिग्गयाण सखुडुयविअत्ताण' (सम ३५) ।

४ पु भगवान् महावीर का चतुर्थं गणधर—प्रमुख शिष्य (सम १६) । ५ गीतार्थं मुनि (ठा ४ १ टी—पत्र २००) । ६ किच्च न [वृत्त्य] गीतार्थं का कर्तव्य—अनुष्ठान (ठा ४, १ टी) ।

विअत्त वि [विदत्त] विशेष रूप से दिया हुआ (ठा ४, १ टी—पत्र २००) ।

विअत्त पु [वितर्त] एक ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३ टी—पत्र ७६, सुज १६ टी—पत्र २६६) ।

विअइ वि [वितर्द] हिंसक (आचा १, ६, ४, ५) ।

विअइ देखो विअड्ठ = विदग्ध (पच ६०, नाट—मालती ५४) ।

विअन्नु देखो विन्नु (सट्टि ८) ।

विअप्प सक [वि + कल्पय] १ विचार करना । २ सशय करना । वियप्पइ, विअप्पेइ

(भवि, गा ४७६) । वक्क वियप्पत (महा) । क्क वियप्प (उप ७२८ टी) ।

विअप्प पु [विकल्प] १ विविध तरह की कल्पना, 'त जयइ विरुद्ध विव वियप्पजालं कइदाए' (गडड) । २ वितर्क, विचार (महा) । ३ भेद, प्रकार, 'द्वव्वट्ठिओ अ पव-वनओ अ, सेसा विअप्पा ति' (सम्म ३) । देखो विगप्प = विकल्प ।

विअप्पण न [विकल्पन] ऊपर देखो, 'एगनुच्छेप्रमि वि सुहुदुक्खविअप्पणमजुत' (सम्म १८, स ६८४) ।

विअप्पणा खी [विकल्पना] ऊपर देखो (धर्मस २१०) ।

विअठम देखो विदग्ध (प्राप्र ३८, परम २६, ८) ।

विअम्ह देखो विअभ = वि + जम्ह । विअ-म्हइ (प्राप्र ६४) ।

विअय देखो विजय = विजय (औप, गडड) ।

विअय वि [वितत] १ विस्तीर्ण, विशाल (महा) । २ प्रसारित, फेलाया हुआ (विते २०६१, श्रावक २०३) । ३ पक्खि पु [पक्षिन्] मनुष्य लोक से बाहर रहनेवाले पक्षी की एक जाति, 'वरलोगाओ बाहि समुगपक्खी विअयपक्खी' (जी २२) । देखो वितत = वितत ।

विअर सक [वि + चर] विहरना, घूमना-फिरना । विअरइ (गडड ३८८) ।

विअर सक [वि + तृ] देना, ग्रंथ करना । वियरइ (कस, भवि), वियरेज्जा (कप्प) । कर्म, वियरिज्जइ (उत १२, १०) । वक्क वियरत (काल) ।

विअर पुं [दे] १ नदी आदि जलाशय सूख जाने पर पानी निकालने के लिए जलमें दिया जाता गर्त, गुजराती में 'वियडो' (ठा ४, ४—पत्र २८१, खाया १, १—पत्र ६३, १, ५—पत्र ६६) । २ गर्त, खड्डा, 'तं गुलस्स जाव अन्नेसि च व्हए विअरिदि पाज्जाण दन्नाए पुजे य निकरे य करंवि, करेत्ता वियरेए खणति'...वियरे नरति (खाया १, १७—पत्र २२६) ।

विअरण न [विचरण] विहाद, चतम-फिरना (अजि १६) ।

विडचत (पत्रम ८, ३२) । कनक विडविज्जत (सुपा ७०) ।

विडव सक [वि + डम्बय्] विवृत करना, फैलाना । विडवेइ (भाग ३, २—पत्र १७३) ।

विडव पुन [विडम्ब] १ तिरस्कार, अपमान (भवि) । २ माया जाल, प्रपच, 'अण्णिच्च च कामाणु सेवाविडव' (सु ६, कप्प) ।

विडवग वि [विडम्बय्] विडवना-जनक, 'अइवेसविडवगा नवर' (सवोध १४, उव) ।

विडवण न [विडम्बन्] नीचे देखो (भवि) ।

विडवणा स्त्री [विडम्बन्ता] १ तिरस्कार, अपमान (दे) । २ दुःख, कष्ट (वण ४२) । ३ अनुकरण, नकल । ४ उपहास । ५ कपट-वेप (कप्प) ।

विडविय वि [विडम्बित्] विडम्बना-प्राप्त (कप्प, गउड, ३०२) ।

विडवभाण वि [विडम्बमान] जो जलाया जाता हो वह, जलता हुआ (आचा १, ६, ४, १) ।

विडव्ढ देखो विद्वद्ढ (गा ६७१) ।

विडवप्प पु [वि] राहु (दे ७, ६५, पात्र, विडय } गउड, वज्जा ६८, दे ७, ६५) ।

विडव पु [विटप] १ पल्लव (सुर ३, ४५) । २ शाखा (भनि ११०) । ३ पल्लव-विस्तार । ४ स्तम्भ गुच्छा (पात्र) ।

विडव पु [विटपिन्] वृक्ष, पेड़, दरखत (पात्र, सुपा ८८, गउड, सण) ।

विडविड } सक [रचय्] बनाना, निर्माण
विडविडु } करना । विडविड, विडविडुइ (दे ८, ६८, पड्) । भूका विडविडुअ (कुमा) ।

विडविड वि [विडित] लज्जित (मे ११, ५०, पि ८२) ।

विडविड वि [वि] निगरान, भोषण, भयकर (दे ७, ६६) ।

विडविड पु [वि] १ गन मृग (दे ७, ८६) । २ गण्ड, गंड (दे ७, ८६, गउड) । ३ गुड, पट्ट । गुगय पायस रत्ना आगमा वि. न. स. (गनि १, ३०) । ४ शाखा (गउड २, ८—पत्र १३०, गीन, तडु २१) ।

विडिमा स्त्री [दे] शाखा (पणह २, ४, तडु २१, राज) ।

विडुच्छअ वि [दे] निषिद्ध, प्रतिषिद्ध (षड्) ।

विडुविल्ल वि [दे] भोषण, भयकर (नाट—मालती १३७) ।

विडुर पु [विदूर] १ पर्वत-विशेष । २ देश-विशेष, जहाँ वैदूर्य रत्न पैदा होता है (कप्प) ।

विडोमिअ पु [दे] भण्डक मृग, गंडा (दे ७, ५७) ।

विडु वि [दे] १ दीर्घ, लम्बा (दे ७, ३३) । २ प्रपच, विस्तार (दे १, ४) ।

विडु वि [व्रीड, व्रीडित] लज्जित, शरमिन्दा, 'लज्जिया विलिया विडु' (निर १, १, पि २४०) ।

विडुर देखो विडुर, 'अकडविडुरमेय कि देव पारड' (उप ७६८ टी) ।

विडुा स्त्री [व्रीडा] लज्जा, शरम (दे ७, ६१, पि २४०) ।

विडुर न [विदुर] देखो विडुर (राज) ।

विडुर न [दे] १ आभोग (दे ७, ६०) । २ आटोप, झाडम्बर (पात्र) । ३ वि रौद्र भयकर (दे ७, ६०) ।

विडुरिहा स्त्री [दे] रात्रि, निशा (दे ७, ६७) ।

विडुडुम देखो विदुडुम (पात्र) ।

विडुडुरी स्त्री [दे] आटोप, झाडम्बर, 'कि लिंगविडुडुरीघारणेण' (उव) ।

विडुडुरिहा वि [वैदूर्यवन्] वैदूर्य रत्नवाला (सुपा ५६) ।

विडुडेर न [दे विडुर] नक्षत्र-विशेष, पूर्व द्वारवाले नक्षत्रों में पूर्व दिशा से जाने के बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पडता नक्षत्र (विसे ३४०६) । देखो विडुर ।

विडुज्ज (शो) सक [वि + उह्] जलाना । सक विडुज्जिअ (पि २१२) ।

विडुणा स्त्री [दे] पाप्पि, फीली का नीचला भाग (दे ७, ६२) ।

विडुत्त वि [आजेत्] उपार्जित, पैदा किया हुआ (दे ४, २५८, गउड, वा १०, प्रासू ७४, भवि) ।

विडुत्ति स्त्री [अर्जिति] अर्जन, उपार्जन (आ १२) ।

विडुत्प अक [वयुन् + पड्] व्युत्पन्न होना । विडुत्पति (प्राक ६४) ।

विडुत्प नीचे देखो ।

विडव सक [अर्ज] उपार्जन करना, पैदा करना । विडवइ (हे ४, १०८, महा, भवि) । कर्म विडविज्जइ, विडवइ (हे ४, २५१, कुमा, भवि) ।

विडवण न [अर्जन] उपार्जन (सुर १, २२१) ।

विडविअ वि [अर्जित] पैदा किया हुआ (कुमा, सुपा २८०, महा) ।

विडिअ वि [वेष्टित] लपेटा हुआ (सुपा ३८८) ।

विणइ वि [विनयिन्] दूर करनेवाला, 'आरभविणइण' (आचा) ।

विणइत्त वि [विनयवन्] विनयवाला, विनय को ही सर्व-प्रधान माननेवाला (सूअनि ११८) ।

विणइत्तु वि [विनेत्] विनीत बनानेवाला, विनय की शिक्षा देनेवाला (उत्त २६, ४) ।

विणइत्तु देखो विणी = वि + नी ।

विणइय वि [विनयित] शिक्षित किया हुआ, सिखाया हुआ (राज) । देखो विणणय ।

विणइल्ल देखो विणइत्त (कुमा) ।

विणणत्तु देखो विणी = वि + नी ।

विणट्ट वि [विनष्ट] विनाश-प्राप्त (उव, प्रासू ३१, नाट—मुच्छ १५२) ।

विणड सक [वि + नटय्, वि + गुप्] १ व्याकुल करना । २ विडम्बना करना ।

विणडइ (गउड ६८), विणडति (उव), विणडउ (हे ४, ३८५, पि १००) ।

विणडिअ देखो विनडिअ (गा ६३० टी) ।

विणण न [वान] कुनना (वृह १) ।

विणभ सक [खेदय्] खिन्न करना । विणभइ (वात्ता १५३) ।

विणम सक [वि + नम्] विशेष रूप से नमना । वरु विणमत (नाट—भालवि ३४) ।

विणमि देखो विनमि (राज) ।

विआरणा स्त्री [वितारणा] विप्रतारणा, ठगाई (उप ६१६)।
 विआरय वि [विचारक] विचार करनेवाला (पउम ८, ५)।
 विआरि वि [विचारिन्] ऊपर देखो (श्रौप)।
 विआरिअ वि [विचारित] जिसका विचार किया गया हो वह (दे १, १६८)।
 विआरिअ वि [विदारित] १ खोला हुआ, फाटा हुआ, 'दूरविआरिअमुह महाकाय—सीह' (रागि १२)। २ विदीर्ण किया हुआ, चीरा हुआ (भवि)।
 विआरिअ वि [वितारित] १ अर्पित, दिया गया, 'बालि या सितोहरा वियारिया विट्टी' (स ३३७)। २ ठगा हुआ, विप्रतारित, 'जइ पुण बुत्तेण अह वियारिओ' (सुपा ३२४)।
 विआरिआ स्त्री [दे] पूर्वाह्नि का भोजन (दे ७, ७१)।
 विआरिअ } वि [विआरवत्] विकारवाला,
 विआरुअ } विकारयुक्त (प्राप्त, हे २, १५६)। स्त्री. ०हा (सुपा १६४)।
 विआल देखो विआल = वि + चारय्। वङ्ग. वियालत (उवर ८२)।
 विआल देखो विआर = वि + दारय्। कृ. वियालणिय (सुअनि ३६, ३७)।
 विआल पुं [विकाल] सन्ध्या, साँक, सायकाल (दे ७, ६१, कप्पू. विपा १, ५—पत्र ६३, हे ४, ३७७, ४२४, कस, भवि)। ०चारि वि [०चारिन्] विकाल में घुमनेवाला (राया १, १—पत्र ३८, १, ४, श्रौप)।
 विआल पु [दे] चोर, तस्कर (दे ७, ६०)।
 विआल वि [व्याल] दुष्ट, 'मोण वियाल पडिपहे पेहाए, महिसं वियाल पडिपहे पेहाए, चिताचेल्लरय वियाल पडिपहे पेहाए' (आचा २, १, ५, ४)। देखो चाल = व्याल।
 विआल देखो विचाल (राज)।
 विआलग देखो विआलय = विकालक (ठा २, ३—पत्र ७७)।
 विआलग देखो विआरण = विचारण (श्लो ६६, विसे १७६, पिड ५६७)।
 विआलणा देखो विआरणा = विचारणा (विसे ३४७ टी पिड ५६७)।

विआलय वि [विदारक] विदारण-कर्ता (सुअनि ३६)।
 विआलय पु [विकालक] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज २०)।
 विआल्लि न [दे] व्याधु, सायंकाल का भोजन, 'जा महु पुत्तह करयलि लग्गइ सा अमिएण वियाल्लि मग्गइ' (भवि)।
 विआल्लुअ वि [दे] असहन्त, असहिष्णु (दे ७, ६८)।
 विआव सक [वि + आप्] व्याप्त करना (प्राप्ता)।
 विआवड देखो वावड = व्यापृत (श्लोभा १६६, पउम २, ६)।
 विआवत्त पु [व्यावर्त्त] १ घोष और महाघोष इन्द्रो के दक्षिण दिशा के लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८, इक)। २ ऋजुवालिका नदी के तीर पर स्थित एक प्राचीन चैत्य (कप्प)। ३ पुन. एक देव-विमान (सम ३२)।
 विआवाय पु [व्यापात] भ्रश, नाश (आचा १, ६, ५, ६ टि)।
 विआविअ देखो वावड = व्यापृत (धर्मस ६७६)।
 विआस पुं [विकारा] १ बुँह आदि की फाड़—खुलापन, 'थूल वियास मुहे' (सुअ १, ५, २, ३)। २ अवकाश (गड २०१)।
 विआस पु [विकास] प्रकुलता (पि १०२, भवि)।
 विआस देखो वास = व्यास (राज)।
 विआसइत्तअ (शौ) वि [विकासयितृक] विकसित करनेवाला (पि ६००)।
 विआसग वि [विकासक] ऊपर देखो (सुपा ६५८)।
 विआसर वि [विकस्वर] विकसनेवाला, प्रफुल्ल (पड्)।
 विआसि } वि [विकासिन्] ऊपर देखो
 विआसिअ } (पि ४०५, सुपा ४०२, ६)।
 विआह सक [व्या + ख्या] व्याख्या करना। कर्म. विआहिण्जति (रादि २२६)।
 विआह पु [विवाह] १ व्याह, परिणयन, शादी (गा ४७६, नाट—मालती ६)। २ विविध प्रवाह। ३ विरिष्ट प्रवाह। ४ वि. विरिष्ट सतानवाला (भग १, १ टी)।

०पण्णत्ति स्त्री [०प्रज्ञप्ति] पाँचवाँ जैन अग्र-ग्रन्थ (भग १, १ टी)।
 विआह वि [विवाह] वाच-रहित (भग १, १ टी)। ०पण्णत्ति स्त्री [०प्रज्ञप्ति] पाँचवाँ जैन अग्र-ग्रन्थ (भग १, १ टी)।
 विआह स्त्री [व्याख्या] १ विशद रूप से अर्थ का प्रतिपादन। २ वृत्ति, विवरण। ०पण्णत्ति स्त्री [०प्रज्ञप्ति] पाँचवाँ जैन अग्र-ग्रन्थ (भग १, १ टी)।
 विआहिअ वि [व्याख्यात] १ जिसकी व्याख्या की गई हो वह, वर्णित (आ २२)। २ उक्त, कथित, 'स एव भवन्सत्ताए चत्तुनुए विआहिए' (गच्छ १, २६, भग)।
 विइ स्त्री [वृत्ति] रज्जु-बन्धन (श्रौप)। देहा वइ = वृत्ति।
 विअइ वि [विदित] ज्ञात, जाना हुआ (पाम, पिड ८२, सवोष ४६, स १६२, महा)।
 विइअ देखो विइकिण्ण (भग १, १ टी—पत्र ३७)।
 विइअिअ वि [विविक्त] विनाशित (स १३३)।
 विइत सक [वि + कृत्] काटना, देना। विइतेइ (राया १, १४ टी—पत्र १८७)।
 विइत देखो विचित्त। वङ्ग. विइतत (गउ ६७८)।
 विइकिण्ण वि [व्यतिकीर्ण] व्याप्त, फैला हुआ (भग १, १—पत्र ३६)।
 विइकत वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत, पुनरु-हुआ (ठा ६—पत्र ४४५, उवा, कप्प)।
 विइगिठा } देखो वित्तिगिठा (आवा,
 विइगिच्छा } कस, उवा)।
 विइगिठ्ठ वि [व्यतिकृष्ट] दूर-स्थित, विप्रष्ट (वृह १)।
 विइगिण्ण देखो विइकिण्ण (कस)।
 विइज्जत देखो वीअ = वीजय्।
 विइज्जत देखो विकिरि।
 विइण्ण वि [विनीर्ण] १ विखरा हुआ 'विइएणकेसो' (उवा)। २ विनिर्म, फँसा हुआ (से १०, ३)। देखो विकिण्ण, विस्मिन्।
 विइण्ण वि [वितीर्ण] दिया हुआ, अर्पित (गा ३४६, ६१७, से ८, ६५, १०, ३, ६ ४, ४४४, महा)।

विणिजुज सक [विनि + युज्] जोडना, कार्य मे लगाना, प्रवृत्त करना । विणिजुजइ (पुत्र ३६१) ।

विणिज्जतण वि [विनिज्जत्तण] १ नियन्त्रण-रहित । २ प्रकटित, खुला । ३ निर्व्याज, कपट-रहित (मे ११, २१) ।

विणिज्जमाण देखो विणी = वि + नी ।

विणिज्जरण न [विनिज्जरण] निर्जरा, विनाश (विसे ३७७६, सवोय ५१) ।

विणिज्जरा सी [विनिज्जरा] ऊपर देखो (सवाय ४६) ।

विणिज्जिअ नि [विनिज्जित्त] पराभूत, जिसका पराभव किया गया हो वह (महा, रभा, नाट—विक्र ६०) ।

विणिद वि [विनिद] खिला हुआ, विकसित (पाम) ।

विणिदलिय नि [विनिदलित्त] विदारित, तोडा हुआ (मण) ।

विणिदुयण सक [विनिदु + यू] कपाना । वरु वि, णदुधुणमाण (पि ५०३) ।

विणिप्फन्न वि [विनिप्फन्न] सखिद, सपन्न (उप ३६६) ।

विणिप्फिअडिअ नि [विनिप्फिट्त] विनिगंत, बाहर निरना हुआ, 'सालिणामाउ तथो वदणहुड विणिप्फिअडिअ' (पउम १०५, २३) ।

विणिपुनु दया विणिपुनु (पि ५६६) ।

विणिपुअन्न वि [विनिपुअन्न] विदारित, 'दुत्तविणिपि अत्तरित्तनहपुअन्नपिअरपरम्मि' (एअम १६) ।

विणिपुअल्लय वि [विनिपुअल्लय] मोचा हुआ, रूसा हुआ, अनिप्रपमुत्तग्रनिणुमोलि-मद्वः १ गुण न ह मायान' (गा २०) ।

विणिपुअय वि [विनिपुअय] (पि ५६६) ।

विणिपुअय वि [विनिपुअय] वरु विणिपुअय (पाम पि ५६०) ।

विणिपुअय वि [विनिपुअय] विरपिन, पापान हुआ, टी (उ ७० = टी) ।

विणिपुअय वि [विनिपुअय] रचना, ट्टि (पि ३३१२) ।

विणिप्पिअ देखो विणिप्पिअ (गा १५६, २३५, पाम, महा) ।

विणिप्पुअ वि [विनिप्पुअ] परित्यक्त, 'सम्ब-कम्मविणिप्पुअ त वय वूम माहण' (उत्त २५, ३४) ।

विणिप्पुअ वि [विनिप्पुअ] छोडना, परित्याग करना । वरु विणिप्पुअमाण (एअया १, १—पत्र ५३, पि ४८५) ।

विणिप्पुअ देखो विणीअ (भवि) ।

विणिप्पुअ देखो विणिप्पुअ । विणिप्पुअज्ज (दस ८, ३४) । वरु, विणिप्पुअमाण (आचा १, ५, ४, ३) ।

विणिप्पुअ वि [विनिप्पुअ] १ पीछे हटा हुआ । २ प्रणट, 'विणिप्पुअ ति पणडु' (वेइय ३४६) ।

विणिप्पुअय सी [विनिप्पुअय] निवृत्ति (उत्त २६, १) ।

विणिप्पुअय देखो विणिप्पुअ (सुपा ३३५, भवि, गा ७१, कुप १८२) ।

विणिप्पुअय सी [विनिप्पुअय] निवृत्ति, उपरम (कुप १८२, गउड) ।

विणिप्पुअय पु [विनिप्पुअय] प्रतिबन्ध, अटकवा (भवि) ।

विणिप्पुअय अक [विनिप्पुअय] निवृत्त होना, पीछे हटना । वरु, विणिप्पुअमाण (आचा १, ५, ४, ३) ।

विणिप्पुअय देखो विनिप्पुअय (राज) ।

विणिप्पुअय सी [विनिप्पुअय] निवर्तन, विराम (भग १७, ३—पत्र ७२७) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] नीचे गिरा हुआ (दे १, १५७) ।

विणिप्पुअय देखो विणिप्पुअय (उप ७२८ टी) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] मार गिराने-वाला (गा ६३०) ।

विणिप्पुअय देखो विणिप्पुअय ।

विणिप्पुअय न [विनिप्पुअय] एक तरह का नाटक (राज) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] मार गिराया हुआ, व्यापारित (उ ६८८ टी, महा, त ५६, सिक्का ८२) ।

विणिप्पुअय सक [विनिप्पुअय] मार गिराना । कवक विणिप्पुअयज्जत (पउम ४५, ८) ।

विणिप्पुअय देखो विणिप्पुअय (दे १, १३८) ।

विणिप्पुअय } पु [विनिप्पुअय] १ निपात, विणिप्पुअय } अन्तिम पतन, विनाश, 'पर-खणेण वि विट्ठो विणिप्पुअयो कि न लोगम्मि' (धम्मस १२५, १२६, स २६५, ७ २) । २ मरण, मौत (से १३, १६, गउड; गा १०२) । ३ ससार (राज) ।

विणिप्पुअय न [विनिप्पुअय] मार गिराना (पउम ४, ४८) ।

विणिप्पुअय सक [विनिप्पुअय] रोकना, निवारण करना, निषेध करना । विणिप्पुअय (भवि) । कवक, विणिप्पुअयत (नाट—मृच्छ १५४) ।

विणिप्पुअय न [विनिप्पुअय] १ निवारण, प्रतिषेध । २ वि निवारण करनेवाला (पचा ७, ३२) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] निवारण-कर्ता (पचा ७, ३२) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] प्रतिषिद्ध, निवारित (महा) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] १ उपविष्ट, स्थित (कुप १५२), 'सकम्मविणिप्पुअयसकयचेट्ठो' (उप, वै ६०) । २ आसक्त, तल्लीन (आचा) ।

विणिप्पुअय देखो विणिप्पुअय (उप ७८६) ।

विणिप्पुअय देखो विणिप्पुअय (विसे २६३६, उवर १२७, आवक २५१, २५२, पचा १, १७) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] निमग्न, बुडा हुआ, तरावार, सरावोर, 'तइया ठिओ सि ज किर पलोट्टसरभसेयविणिप्पुअय' (गउड ४६०) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] जनाया हुआ, स्थापित (से १४, ४०) ।

विणिप्पुअय पु [विनिप्पुअय] १ स्थिति, उप-वेशन । २ विन्यास, रचना (गउड) ।

विणिप्पुअय वि [विनिप्पुअय] स्थापित, रखा हुआ (गा ६७४, सुर ३, ६५) ।

विणिप्पुअय न [विनिप्पुअय] पश्चात्ताप, अनुशय (दे ७, ६८) ।

विडवाय पु [व्युत्पात] हिंसा, प्राणि-वध (सूत्र २, ४, ३)।

विडव्व सक [वि + कृ, वि + कुर्व्] १ वनाना—दिग्ध सामर्थ्य से उत्पन्न करना। २ श्लकृत करना, मरिडत करना। विडव्वद्, विडव्वए (भग, कप्प, महा, पि ५०८)। भूका विडव्विमु। भवि, विडव्विदसति (भग ३, १—पत्र १५६), विडव्विस्तामि (पि ५३३)। वड्ड विडव्वमाण (सुख २०)। कवड्ड विडव्विज्जमाण (ठा १०—पत्र ४७२)। सड्ड विडव्विऊण, विडव्विऊण, विडव्विन्ता, विडव्विड (महा, पि ५८५, भग, कस, सुधा ४७)। हेड्ड विडव्विन्ताए (पि ५७८)।

विडव्व न [वैक्रिय] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वरूपो और क्रियायो को करने मे समर्थ शरीर (पउम १०२, ६८, पव १६२, कम्म १, ३७)। २ कर्म-विशेष, वैक्रिय शरीर को प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ३३)। ३ वि वैक्रिय शरीर से सबन्ध रखनेवाला (कम्म ४, २६)।

विडव्वणया } ङी [विक्रिया, विकुर्वणा]
विडव्वणा } १ वनावट, शक्ति-विशेष से किया जाता वस्तु-निर्माण (सूत्रानि १६३, औप, पउम ११७, ३१, पत्र २३०)। २ शक्ति-विशेष, वैक्रिय-करण शक्ति (देवेन्द्र २३०)।

विडव्वाढ वि [दे] १ विस्तीर्ण। दु ख-रहित (दे १, १२६)।

विडव्वि वि [वैक्रियिन्, विकुर्विन्] १ विकुर्वणा करनेवाला (उप ३५७ टी)। २ वैक्रिय-शरीरवाला (उत्त १३, ३२, सुख १३, ३२)।

विडव्विअ वि [विकृत, विकुर्वित] १ निर्मित, बनाया हुआ (भग, महा, औप, सुधा ८८)। २ श्लकृत, विभूषित (वृह १)।

विडव्विअ वि [वैक्रियिक] वैक्रिय शरीर से सबन्ध रखनेवाला (कम्म ४, २४)। देखो वेडव्विअ।

विडस सक [व्युत् + सृज्] फँकना। विडसिज्जा (घाचा २, ३, २, ५), विडसिदे (काज्ज ७, १६ १)।

विडस वि [विट्स्] विज्ञ, परिडत (पात्र, उप पृ १०६, सुधा १०७, प्रासू ६३, भवि, महा), 'विडसेहि' (वेइय ७७४), 'विडसाए' (सम्मत्त २१६)।

विडसग्ग देखो विओसग्ग (हे २, १७४, षड्)।

विडसमण न [व्युपशमन, व्यवशमन] १ उपशम, उपसय। २ सुरत का अवसान, 'ता से ए पुरिसे विडसमणकालसमयसि केरिसए सायासोकख पच्चएण्णवममाणे विहरति' (सुज्ज २०, भग १२, ६—पत्र ५७८)। ३ वि विनाशक, 'सव्वदुक्खपावाए विडसमण' (परह २, १—पत्र १००)।

विडसमणया ङी [व्यवशमना] उपशम, क्रोध-परित्याग (भग १७, ३—पत्र ७२६)। विडसमिय देखो विओसमिय (राज)।

विडसरण न [व्युत्सर्जन] परित्याग (दस १)।

विडसरणया ङी [व्युत्सर्जना] ऊपर देखो (भग, एयाया १, १—पत्र ४६)।

विडसव देखो विओसव। संड्ड. विडसवेत्ता (कस १, ३५ टि)।

विडसवण देखो विडसमण (परह २, ४—पत्र १३१)।

विडसविय देखो विओसविय (ठा ६—पत्र ३७०)।

विडसिज्जा देखो विओसिज्जा (माचा १, ६, २, २)।

विडसिरणया देखो विडसरणया (राय १२८)।

विडस्स सक [वि + उश्] विशेष बोलना। विडस्सति (सूत्र १, १, २, २३)।

विडस्स अक [विट्स्] विद्वान् को तरह आचरण करना। विडस्सति (सूत्र १, १, २, २३)।

विडस्सग्ग देखो विओसग्ग (भग १, ६, उत्त ३०, ३०)।

विडस्सित्त वि [व्युत्सित्त, व्युत्सिक] अग्निनिविष्ट, कदाग्रह-युक्त (सूत्र १, १, १, ६)।

विडस्सिय वि [व्युत्पित] विशेष रूप से रहा हया (सम १, १, २, २३)।

विडस्सिय वि [व्युच्छित्त] विविध तरह से आश्रित, 'ससार ते विडस्सिया' (सूत्र १, १, २, २३)।

विडह सक [व्यूह] प्रेरणा करना। सड्ड विडहित्ताण (दस ५, १, २२)।

विडह वि [वितुष] १ परिडत, विद्वान्। २ पु देव, सुर (ह १, १७७)। देखो विवुह। विडरिअ वि [दे] नष्ट, नाश-प्राप्त (दे ७, ७२)।

विडसिर सक [व्युत् + सृज्] परित्याग करना, 'विडसिरे विन्नु अगारववण' (प्राचा २, १६, १)।

विडह पु [व्यूह] रचना-विशेष (पवा ८, ३०)।

विअ वि [वितेजस्] महान् प्रकाश, 'अचंतविअएणवि गव्याए ए एण्वडति सक्क्या।

विज्जुज्जुश्री वहलत्तेण मोहेइ अच्योई' (गड्ड)।

विअएण अ [दे] चुनकर, 'सुयसागरा विअएण जेए सुयरणएमुत्तम दिएण' (परएण १—पत्र ४)।

विअस पु [विदेश] १ देशान्तर, परदेश (सिरि ४६७, महा)। २ कुसित्त ग्राम, वरान गाव। ३ वन्यन-स्थान (गा ७६)।

विओअ पु [वियोग] बुद्धाई, विओह, विरह (स्वप्न ६३, अग्नि ४६, हे १, १७७, सुर ४, १५२, महा)।

विओइअ वि [वियोजित] बुद्धा किया हुआ (सि ६, ७१, गा १३२, स ६८, सुर १५, २१७)।

विओग्ग देखो विओअ (सुर २, २१५, ५, १५१, महा)।

विओगिय वि [वियोगित] वियोग प्राप्त (धर्मवि १३१)।

विओज सक [वि + योजय्] प्रलग करना। विओजयति (सूत्र १, ५, १, ६)।

विओजय वि [वियोजक] विभाग-कारक (स ७५०)।

विओदर पु [वृओदर] भोमसेन, एक पाएअ (पाट—वेणी ३६)।

विओयण न [वियोजन] वियोग, विच्छेद (सुर १२, ३२)।

विण्ह देखो वण्हि = वृष्णि (राज)।

विण्ह पु [विण्ह] ? भगवान् श्रेयासनाथ के पिता का नाम (सम १५१)। २ श्रवण नक्षत्र का अधिपति देव (ठा २, ३—पत्र ७७)। ३ यदुवध के राजा अन्धकवृष्णि का नवनों पुत्र (अत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार नामक मुनि (कुलक ३३)। ५ एक श्रेष्ठी (उप १०१४)। ६ वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण। ७ व्यापक। ८ वहि, अग्नि। ९ शुद्ध। १० एक स्मृति-कर्ता मुनि (हे २, ७५)। ११ आर्ये जेहिस के शिष्य एक जैन मुनि (राज)। १२ छो ग्यारहवें जिनदेव की माता का नाम (सम १५१)। १३ कुमार पु [कुमार] एक विख्यात जैन मुनि (पडि)। १४ सरी छो [श्री] एक सायबाह-भरतो (महा)। देखो विण्हु।

वितड देखो वितह (भाचा)।

वितण्ह वि [वितण्ह] वृष्णा-रहित, नि स्पृह (उप २६४ टी)।

वितत पु [वितत] ? बाघ का एक प्रकार का शब्द (ठा २, ३—पत्र ६३)। २ एक महाग्रह (मुज्ज २०—पत्र २६५)। देखो विअत्त। ३ देखो विअय = वितत (ठा ४, ८—पत्र २७१)।

वितत न [दे] कार्य, काम काज (दे ७, ६४)।

वितत्त पि [वितत्त] विशेष वृत्त (परह १, ३—पत्र ६०)।

वितत्थ पु [वितत्थ] ? एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ पि भय भोत, डरा हुआ (महा)।

वितत्था श्री [वितत्था] एक महानदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१)।

वित्द वि [वित्द] ? हियक। २ प्रतिकूल (भाचा)।

वितर वेगा विअर = वि + वृ। वितराम, पितराम (पि १०, ८२५)।

वितर (पत्र) अक [वि + स्तारय्] मिगार करना। वितर (पिग)।

वितरण श्मो विअरण = वितरण (राज)।

वितर पि [वितर] अमल, वितरवरा (गण)।

वितह वि [वितथ] मिथ्या, असत्य, झूठ (भाचा, कम्म, सण)।

वित्तिकिच्छिअ वि [वित्तिकिस्सित] फल की तरह सदेह वाला (भग)।

वित्तिकिण्ण देखो विइकिण्ण (निवृ १६)।

वित्तिकत देखो विइकत (भग)।

वित्तिगिळ सक [वि + चिकित्स्] ? विचार करना, विमर्श करना। २ सशय करना। ३ निन्दा करना। विविगिळइ (सूअ २, २, ४६, ५०, पि ७४, २१५)।

वित्तिगिळा देखो वित्तिगिळ्ळा (भाचा १, ३, ३, १, ५, ५, २, पि ७४)।

वित्तिगिळ्ळिय देखो वित्तिकिच्छिअ (पि ७४, २१५)।

वित्तिगिळ्ळ देखो वित्तिगिळ। वित्तिगिळ्ळामि (पि २१५, ३२७)।

वित्तिगिळ्ळा छो [वित्तिकित्सा] ? सशय, शका, वहम (सूअ १, ३, ३, ५, पि ७४)। २ चित्त-विप्लव, चित्त-भ्रम। ३ निन्दा (सूअ १, १०, ३, पि ७४)।

वित्तिगिळ्ळिअ देखो वित्तिकिच्छिअ (भग)।

वित्तिगिड्ढ देखो विइगिड्ढ (राज)।

वित्तिमिर वि [वित्तिमिर] ? अन्धकार-रहित, विशुद्ध, निर्मल (सम १३७, परण १७—पत्र ५१६, ३६—पत्र ८४७, कम्म)। २ अज्ञान-रहित (श्रीप)। ३ पुं. ब्रह्म-देवलोक का एक विमान-प्रस्तट (ठा ६—पत्र ३६७)।

वित्तिरिच्छि वि [वित्तियेच्छ] बरु, टेडा (स ३३५, पि १५१, भग ३, २—पत्र १७३)।

वित्त वि [दे] दोष, लम्बा (दे ७, ३३)।

वित्त न [वित्त] ? द्रव्य, धन (पाअ, सूअ १, २, १, २२, श्रोप)। २ वि प्रसिद्ध, विख्यात (सूअ २, ७, २, उत १, ४४)। ३ म वि [वत्] धनो (द्र ५)।

वित्त न [वृत्त] ? छन्द, पद्य, कविता (सूअनि ३८, सम्मत ८३)। २ चरित्र, आचरण (तिरि १०६३)। ३ वृत्ति, वर्तन (हे १, १२८)। ४ वि उत्पन्न, सजात (स ७३७, महा)। ५ अतीत, पुजरा हुआ (महा)। ६ दड़, मजदूर। ७ वर्तुल, गोल। ८ अतीत,

पठित। ९ मृत (हे १, १२८)। १० ससिद्ध, पूर्ण (सुर ४, ३६, महा)। ११ पाय वि [प्राय] पूर्ण-प्राय (सुर ७, ८४)। देखो, वट्ट = वृत्त।

वित्त देखो वेत्त = वेत्त (सूअनि १०८)।

वित्त देखो पित्त (उप ५२२)।

वित्तइ वि [दे] ? गवित, अभिमानी। २ पु विलसित, विलास। ३ गर्व, अहंकार (दे ७, ६१)।

वित्तत पु [वृत्तान्त] समाचार, खबर (पउम २३, १८, सुपा २०४, भवि)।

वित्तत्थ देखो वितत्थ (सुख ६, १, नाट—वेणी २६)।

वित्तविय देखो वट्टिअ, वत्तिअ = वर्तित (भवि)।

वित्तास सक [वि + चासय्] भयभीत करना, डराना। वित्तासए (उत्त २, २०)। वक्त वित्तासत (उउम २८, २६)।

वित्तास पुं [वित्रास] भय, त्रास, डर (सुपा ४४१)।

वित्तासण न [वित्रासन] भय-प्रदर्शन (भाव)।

वित्तासिअ वि [वित्रासित] डरा कर भगाया हुआ (सुपा ६५२)।

वित्ति पु [वेत्तिन्] दरवान, प्रतीहार (कम्म १, ६)।

वित्ति छो [वृत्ति] ? जीविका, निर्वाह-साधन (शाया १, १—पत्र ३७, स ६७६, सुर २, ४६)। २ टीका, विवरण (सम ४६, विसे १४२२, सार्थ ७३)। ३ वर्तन, आचरण। ४ स्थिति। ५ कोशिकी आदि रचना-विशेष। ६ अन्त करण आदि का एक तरह का परिणाम (हे १, १२८)। ७ अ वि [दे] वृत्ति देनेवाला (श्रोप, अंत, शाया १, १ टी—पत्र ३)। ८ आर वि [कार] टीका-कार, विवरण-कर्ता (कम्प)। ९ च्छेय, छेय [च्छेद] जीविका-विनाश (भाचा, सूअ १, ११, २०)। देखो वित्ती = वृत्ति।

वित्तिअ वि [वित्तिक] वित्त से युक्त, धन-वाला, वैभवशाली (श्रोप, अन्त, शाया १, १ टी—पत्र ३)।

विकृच वि [विकृच] विकसित, प्रफुल्ल (दि ७, ८६) ।

विकृष्ट सक [वि + कृन्] काटना । वक्र, विकृष्ट (सया ६) ।

विकृष्टिय वि [विकृत्त] काटा हुआ (तदु ४४) ।

विकृष्ट देखो विअष्ट (राज) ।

विकृष्ट सक [वि + कृष्] खीचना । विकृष्ट (परह १, १—पत्र १८) । वक्र, विकृष्टमाण (उवा) ।

विकृत्त देखो विकृष्ट । विकृतति (सूय १, ५, २, २), विकृताहि (परह १, १—पत्र १८) ।

विकृत्त वि [विकृत्त] विशेषक, विनाशक, 'अथा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य सुहाण य' (उत्त २०, ३७) ।

विकृत्य देखो विकय । विकृत्यइ, विकृत्यसि (उव, कुप्र १२५) । वक्र, विकृत्यंत (सुपा ३१६) ।

विकृत्यण न [विकृत्यण] १ प्रशसा, श्वाधा । २ वि प्रशसा-कर्ता (पुष्क ३३०, धर्मवि ३६) ।

विकृत्यणा स्त्री [विकृत्यणा] प्रशसा, श्वाधा (पिंड १२८) ।

विकृत्प देखो विअत्प (कस, पचभा) ।

विकृत्पण न [विकृत्पण] छेदन, काटना, 'पक्रोउ(१पउ)लण-विकृत्पणारिण य' (परह १, १—पत्र १८) ।

विकृत्पणा देखो विअत्पणा (शाया १, १६—पत्र २१८) ।

विकृत्पिय देखो विगत्पिय (राज) ।

विकृत्य देखो विगय = विकृत (परह १, १—पत्र २३, १, ३—पत्र ४५) ।

विकृत्य देखो विकृच (पिंग) ।

विकृर सक [वि + कृ] विकार पाना । कवक विकृरत (अच्छु ४७) ।

विकृरण न [विकृरण] विशेषण, विनाश, 'कम्मरयविकृरणकर' (शाया १, ८—पत्र १५२) ।

विकृराल देखो विगराल (दे, राज) ।

विकृल देखो विअल = विकल, 'कला अतिकला तुष्क' (कुप्र ८, सिरि २२३, पचा ६, ३६) । देखो विगल = विकल ।

विकस देखो विअस । विकसइ (पड्) ।

विकसिय देखो विअसिअ (कप्प) ।

विकहा देखो विगहा (सम ४६) ।

विकारिण वि [विकारिन्] विकार-युक्त, 'वालो अकारिणो अकुद्धीओ' (पउम २६, ६०) ।

विकासर देखो विआसर (हे १, ४३) ।

विकइ देखो विगइ = विकृति (विसे २६६८) ।

विकिचण देखो विगिचण (शोधभा २०६ टी) ।

विकिचणया देखो विगिचणया (शोधभा २०६ टी, ठा ८ टी—पत्र ४४१) ।

विकिट्ट वि [विकिट्ट] १ उच्छृ, 'विकिट्टत-वसोसियगो' (महा) । २ न लगातार चार दिनों का उपवास (सबोध ५८) । देखो विगिट्ट ।

विकिण सक [वि + क्री] वेचना । विकिणइ (हे ४, ५२) ।

विकिणण न [विकिणण] विक्रय, वेचना (कुमा) ।

विकिणण वि [विकिणण] १ व्याप्त, भरा हुआ (भग) । २—देखो विइणण, विकिन्न = विकीर्ण (दे) ।

विकिदि देखो विगइ = विकृति (प्राक् १२) ।

विकिन्न वि [विकिणण] १ आच्छृ (परह १, १—पत्र १८) । २ देखो विइणण = विकीर्ण (परह १, ३—पत्र ४५) ।

विकिय देखो विगिय (शोधभा २८६ टी) ।

विकिर अक [वि + कृ] १ बिखरना । २ सक फँकना । ३ हिलाना । कवक विइज्जत, विकिरिज्जमाण (गठ ३३४, राज) ।

विकिरण देखो विकरण (तदु ४१) ।

विकिरिया स्त्री [विकिरिया] १ विविध क्रिया । २ विशिष्ट क्रिया (राजा) । देखो विकिकरिया ।

विकीण देखो विकिण । विकीणइ, विकीणप (पड्) ।

विकीरंत देखो विकर ।

विकुच्छिअ वि [विकुत्सित] खराब, दुष्ट (भवि) ।

विकुञ्ज सक [विकुञ्जत्] कुञ्ज करना, दवाना । सक विकुञ्जिय (आचा २, ३, २, ६) ।

विकुप्प अक [वि + कुप्] कोप करना । विकुप्पए (गा ६६७) ।

विकुब्ब देखो विउब्ब = वि + कृ, कुर्व् । विकुब्बति (पि ५०८) । भूका विकुब्बि (पि ५१६) । भवि, विकुब्बिसति (पि ५३३) । वक्र गिन्वमाण, (ठा ३, १—पत्र १२०) ।

विकुस पु [विकुश] वल्लज आदि तुण (शौप, शाया १, १ टी—पत्र ६) ।

विकूड सक [वि + कूटय्] प्रतिवात करना । विकूडे (विसे ६३३) ।

विकूण सक [वि + कूणय्] घृणा से मुह मोड़ना । विकूणइ (विसे १०६) ।

विकोअ पु [विकोच] विस्तार, फैलाव (धर्मस ३६५, भग ५, ७ टी—पत्र २३६) ।

विकोच देवो विगोव, 'को पवणए विकोचद सो नेओ दीहससारी' (चेइय ८३०) ।

विकोचण न [विकोचण] विकास, प्रसार, फैलाव, 'सोसमइविकोचणए' (पिंड ६७) ।

विकोचणया स्त्री [विकोचणया] विपक, 'इ दिअत्यविकोचणए' (ठा ६—पत्र ४४६) ।

विकोविय वि [विकोविद] कुशल, निपुण (पिंड ४३१) ।

विकोस वि [विकोस] कोश-रहित (तदु २०) ।

विकोस } अक [विकोशय्] १ मोघ
विकोसाय } रहित होना, विकसना । २
फैलना । विकोसइ (हे ४, ४२) । वक्र
विकोसायत (परह १, ४—पत्र ७८) ।

विकोसिअ वि [विकोशित] १ विरसित (कुमा) । २ कोश-रहित, नगा (शाया १, ८—पत्र १३३) ।

विक सक [वि + क्री] वेचना । वक्र, विक (पउम २६, ६) । कवक विकायमाण (द्व ५, १, ७२) ।

विकअ पु [विकय] वेचना (अभि ८८, गठ ८ ४६) ।

विकअ देखो विकच (पड्) ।

विकइ वि [विकियन्] वेचनेना (२२, ६८) ।

विदुम वि [विद्वस्] विद्वान्, जानकार (सूत्र १, २, ३, १७)।

विदुर वि [विदुर] १ विचक्षण, विज्ञ (कुमा)।
२ घोर। नागर, नागरिक (दे १, १७७)।
४ पु. कोरवों के एक प्रख्यात मन्त्री (शाया १, १६—पत्र २०८)।

विदुलतग न [विदुलताङ्ग] सख्या-विशेष, हाहाङ्गुहू को चौरासी लाख से गुनने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक)।

विदुलता स्त्री [विदुलता] सख्या-विशेष, विदुलताग को चौरासी लाख से गुनने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक)।

विदुस देखो विदु, 'ए पमाण अलिय विदुसाण' (धर्मस ८८०)।

विदूसग } पु [विदूपक] मसखरा, राजा के
विदूसय } माय रहनेवाला मुसाहव (साधं ६५, सम्मत्त ३०)।

विदेस देखो विएस = विदेश (शाया १, २—पत्र ७६, श्रोप, पत्रम १, ६६, विते १६७१, कुमा, प्राप् ४४)।

विदेसि कि [विदेसिन्] परदेशी (मुपा ७२)।

विदेसिअ वि [विदेशिक] ऊपर देखो (सिरि ३६५)।

विदेह पु [विदेह] १ राजा जनक (ती ३)।
२ पु व देश विशेष, विहार का उत्तरीय प्रदेश जो आजकल 'तिरहुत' के नाम से प्रसिद्ध है, 'देव भारदे वारे पुव्वेसे विदेहा ग्राम पणपया' (ती १७, अत)। ३ पुन वर्ष-विशेष, महाविदेह-नेत्र (पव १६३)। ४ वि विशिष्ट शरीरवाना। ५ निर्लेप, लेप-रहित। ६ पु अन्न, कामदेव। ७ गृह-वास (रण १००)। ८ नियम पत्र का एक टूट। ९ त्रिभुज का एक कूट (ठा ६—पत्र १५५)। 'जचू स्त्री [जचू] जन्मवृष विशेष, चिकने नाम से यह जन्म-दोष मरनाता है (न ४, धक)। 'जचू पु [जानार्च, गाल] गंगान् महावीर (कम्प ११०)। 'दत्ता स्त्री [दत्ता] गंगान् महावीर की माता, रानी त्रिशता (कम्प)। 'दुहिना स्त्री [दुहिह] राजा जनक की पुत्री, मिता (ती ३)। 'पुत्त पु [पुत्र] राजा हरिश्च (ना ७, ८)।

विदेहदिन्न पुं [विदेहदत्त] भगवान् महावीर (कम्प ११० टी)।

विदेहा स्त्री [विदेहा] १ भगवान् महावीर की माता, त्रिशला देवी (कम्प ११० टी)।
२ जानकी, सीता (पत्रम ४६, १०)।

विदेहि पु [विदेहिन्] विदेह देश का अधिपति, तिरहुत का राजा (सूत्र १, ३, ४, २)।

विदेही स्त्री [विदेही] राजा जनक की पत्नी, सीता की माता (पत्रम २६, २)।

विदंडिअ वि [दे] नाशित, नष्ट किया हुआ (दे ७, ७०)।

विदड्ड पु [विदग्ध] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७)।

विद्व सक [वि + द्रावय्] १ विनाश करना। २ हैरान करना, उपद्रव करना। ३ दूर करना, हटाना। ४ फरना, टपकना।

विद्वई (कुप्र २८०)। वक्र, विद्वयत (रयण ७२)। कवक 'रज्ज रक्कड़ न परेहि विद्विज्जत' (कुप्र २७, सुर १३, १७०)।

विद्व पु [विद्रव] १ उपद्रव, उपसर्ग, 'परचक्करडचोराडविद्व दूरमुवगया सब्बे' (कुप्र २०)। २ विनाश (शाया १, ६—पत्र १५७, धर्मवि २३)।

विद्विअ वि [विद्रवित] १ विप्लावित (से ४, ६०)। २ दूर किया हुआ, हटाया हुआ (गा ८८)। ३ विनाशित (भवि, सण)।

विद्विअक [वि + द्रा] खराब होना। विदाइ (से ४, २६)।

विद्विअण वि [विद्राण] १ म्लान, निस्तेज, फीका, 'विद्विअणुहा ससोगिल्ला' (सुर ६, १२४), 'अदीणविद्विअणुमुहकमलो' (यति ४३), 'दारिद्रमविद्विअण नज्जइ आयारमित्तओ लुक्क' (कुप्र १६५)। २ शोकानुर, दिलगीर, 'विद्विअणो परियणो' (म ४७३, उप ६०४, उप ३२० टी)।

विद्विअय वि [विद्रुत] १ विनष्ट (कुमा)। २ पलायित। ३ द्रव-युक्त, द्रव-प्राप्त (हे १, १०७, पड)।

विद्विअक [विद्रुत्स्य] पुद को विद्वान् मानना। वक्र विद्विअमाण (आचा)।

विद्विअर देखो विद्वार (वव १)।

विद्विअरण (अप) वि [विद्वारण] चीरनेवाला, फाडनेवाला। स्त्री ंणी (भवि)।

विद्विअविय देखो विद्विअ (भवि)।

विद्विअदुम पुं [विद्रुम] १ प्रवाल, मूंगा (से २६, गड्ड, जी ३)। २ उत्तम वृक्ष (से २, २६)। 'अम पुं [अम] नववें बलदेव का पूर्व-जन्म का गुह (पत्रम २०, १६३)।

विद्विअदुय वि [विद्रुत] अभिभूत, पीडित, 'अग्निभयविद्विअ (ह)या (शाया १, १—पत्र ६५)।

विद्विअदुणा स्त्री [दे] लज्जा, शरम (दे ७, ६५)।

विद्विअस पु [विद्वेष] द्वेष, मत्सर (परह १, २—पत्र २६)।

विद्विअस वि [विद्वेष्य] द्वेष-योग्य, अप्रिय (परह १, २—पत्र २६)।

विद्विअसण न [विद्वेषण] एक प्रकार का अभिचार-कर्म, जिससे परस्पर में शत्रुता होती है (स ६७८)।

विद्विअसि वि [विद्वेषिन्] द्वेष-कर्ता (कुप्र ३६७)।

विद्विअसिअ देखो विद्विअसिअ (आ १२)।

विद्विअसिअ वि [विद्वेषित] द्वेष-युक्त (भवि)।

विद्व सक [व्यध्] वीधना, छेद करना। विद्व (धात्वा १५३, नाट—रत्ना ७)। कवक विद्विज्जत (वे ८८)। सक विद्वधूण (सूत्र १, ५, १, ६)।

विद्व वि [विद्व] वीधा हुआ, वेध किया हुआ (से १, १३, भवि)।

विद्व देखो वुड्ड = वृद्ध (उत्त ३२, ३, हे १, १२८, भवि)।

विद्वस अक [वि + च्वर्] विनष्ट होना। विद्वसइ (ठा ३, १—पत्र १२३)। वक्र, विद्वसमाण (सूत्र १, १५, १८)।

विद्वस सक [वि + च्वसय्] विनष्ट करना। भवि, विद्वसेहिंति (भग ७, ६—पत्र ३०५)।

विद्वस पु [विध्वस] १ विनाश (सुर १, १२)। २ वि विनाश-कर्ता, 'जहा से तिमिरविद्वसे उत्तिद्व ते दिवायरे' (उत्त ११, २४)।

विक्खेविद्या श्री [विक्खेपिका] व्याखेप,
विक्षेप (वव ६)।

विक्खोड सक [दे] निन्दा करना, गुजराती
मे 'बखोड्डु'। विक्खोडेइ (सिरि ८२५)।

विखडिय वि [विखण्डित] खण्डित किया
हुआ (पउम २२, ६२)।

विग देखो विअ = वृक (परह १, १—पत्र
७, सण, णाया १, १—पत्र ६५)।

विगइ श्री [विकृति] १ विकार-जनक घृत
आदि वस्तु (णाया १, ८—पत्र १२२,
उव, स ७२; आ २०)। २ विकार (उत्त
३२, १०१)।

विगइ श्री [विगति] विनाश (विसे २१४६)।

विगइगाल वि [विगताङ्गार] राग-रहित
(श्रोष ५७६)।

विगइच्छ वि [विगतेच्छ] इच्छा-रहित,
नि स्पृह (उप १३० टी, ६१३)।

विगच देखो विगिंच। सक्र. विगचिउ,
विगचिऊण (वव २, सबोध ५७)।

विगचण देखो विगिंचण, 'काए कङ्कयणं वज्जे
तहा खेविगचण' (संबोध ३)।

विगचिअ देखो विइचिअ (स १३५ टि)।

विगच्छ अक [वि + गम्] नष्ट होना।
वक्र. विगच्छंत (सम्म १३४)।

विगड्म देखो विगह = वि + ग्रह्।

विगड देखो विअग = विकट (परह १, ४—
पत्र ७८, श्रौप)।

विगड देखो विअड = विवृत (ठा ३, १ टी—
पत्र १२२)।

विगण सक [वि + गणय्] १ निन्दा
करना। २ घृणा करना। कवक विगणिज्जंत
(तदु १४)।

विगत्त सक [वि + क्त] काटना, छेदना।
सक्र. विगत्तिऊण (सूअ १, ५, २, ८)।

विगत्त वि [विकृत्त] काटा हुआ, छिन्न
(परह १, १—पत्र १८)।

विगत्तग वि [विकृत्तक] काटनेवाला (सूअ
२, २, ६२)।

विगत्तणा श्री [विकर्तना] छेदन (उर)।

विगतथय वि [विकर्तयक] प्रशंसा करनेवाला,
भात्मश्लाघा करनेवाला (नवि)।

विगप्प देखो विअप्प = वि + कल्पय्। वक्र.
विगप्पयत, विगप्पमाण (सुर ६, २२४,
३, १२४)।

विगप्प पु [विकल्प] १ एक पक्ष में प्राप्ति,
'चसदो विगप्पेण' (पच ३, ४४)। २
देखो विअप्प = विकल्प (णाया १, १६—
पत्र २१८, सुर ३, १०२, ४, २२२, सुपा
१२६, जो २५)।

विगप्पण देखो विअप्पण (उत्तर ३३, ३२,
महा)।

विगप्पिअ वि [विकल्पित] १ उत्प्रेक्षित,
कल्पित (पव २, उव)। २ चिन्तित, विचारित
(पव १४५)। ३ काटा हुआ, छिन्न, 'हृत्थपा-
यपडिच्छिन्नं कन्ननासविगप्पिअ' (वस ८, ५६)।

विगम पुं [विगम] विनाश (सुर ७, २२६,
१२, १६)।

विगय वि [विकृत] विकार-प्राप्त (णाया १,
२—पत्र ७६, १, ८—पत्र १३३)।

विगय वि [विगत] १ नाश-प्राप्त, विनष्ट
(सम्म १३४, विसे ३३७७, पिंड ६१०)।

२ पु. एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६)। ३ धूम
वि [धूम] द्वेष-रहित (श्रोष ५७६)।

°सोग पुं [शोक] एक महा-ग्रह, ज्योतिष्क
देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८), देखो
वीअ-सोग। °सोगा श्री [शोका] विजय-
विशेष की एक नगरी (ठा २, ३—पत्र ८०)।

विगरण न [विकरण] परिष्ठापन, परिव्याग
(कस)।

विगरह सक [वि + गर्ह] निन्दा करना।
वक्र. विगरहमाण (सूअ २, ६, १२)।

विगराल वि [विकराल] भोषण, भयकर
(सुपा १८२, ५०५, सण)।

विगल सक [वि + गल्] टपकना, चूना।
विगलइ (पड)।

विगल पुं [विकल] १ विकलेन्द्रिय—दो,
तीन या चार ज्ञानेन्द्रियवाला जन्तु (कम्म ३,
११, ४, ३, १५, १६, जो ४१)। २ देखो
विअल = विकल (उव; उप पु १८२, पचा
१४, ४७)। °देस पु [दिश] नय-चाक्य
(अज्ज ६२)।

विगल्लिदिय पु [विकलेन्द्रिय] दो, तीन या
चार इन्द्रियवाला जन्तु (ठा २, २, ३, १—
पत्र १२१)।

विगस अक [वि + हम्] खिलना, फूलना।
विगसति (तदु ५३)। वक्र. विगसत (णाया
१, १—पत्र १६)।

विगह सक [वि + ग्रह] १ लडाईकरना।
२ वर्ग-भूल निकालना। ३ समस्त आदि का
समानार्थक वाक्य बनाना। सक्र. 'भूमो भूमो
विगड्म मूलतिग' (पचा २, १८)।

विगह देखो विगह, 'हासदवविज्जिए विगह-
युके' (गच्छ २, ३३)।

विगहा श्री [विक्था] शास्त्र-विरुद्ध वार्ता,
श्री आदि की अनुपयोगी बात (भग, उव, सुर
१४, ८८, सुपा २५२, गच्छ १, ११)।

विगाढ वि [विगाढ] १ विशेष गाढ, अतिशय
निविड (उत्त १०, ४ टी)। २ चारों ओर से
व्याप्त (राज)।

विगाण न [विगान] १ वचनीय, लोकापवाद
(दे ३, ३)। २ विप्रतिपत्ति, विरोध (धम्म
२६६, चेइय ७५६)।

विगार पु [विकार] विकृति, प्रकृति का अन्याय
परिणाम (उप ६८६ टी, विसे १६८८)।

विगारि वि [विकारि] विकृत होनेवाला
(पिंड २८०, पउम १०१, ४८)।

विगाल देखो विआल = विकाल (सुर १,
११७)।

विगालिय वि [विगालित] विलम्बित, प्रती-
क्षित, 'एत्थिमेत काल विमा (७मा)नियं
जेए आसाए' (सुर ६ २३)।

विगाह सक [वि + गाह] १ भ्रमण
करना। २ प्रवेश करना। सक्र. विगाहिआ
(सम ५०)।

विगिच सक [वि + विच्] १ पृथक्
करना, अलग करना। २ परिव्याग करना।
३ विनाश करना। विगिचइ, विगिचए,
विगिचति (आचा, कस, धायक २६२ टा,
सूअ १, १, ८, १२, पिंड ३६६), विगिच
(सूअ १, १३, २१, उत्त ३, १३, पिंड
३६५)। वक्र. विगिचत, विगिचमाण
(धायक २६२ टी, आचा)। सट्र. विगिचि-
ऊण, विगिचित्ता (पिंड ३०५, आगा)।

विपची लो [विपची] वाद्य-विशेष, वीणा (परह १, ४—पत्र ६८, २, ५—पत्र १४६)।

विपक्व वि [विपक्व] पका हुआ (उप पृ २११)। देखो विवक्व।

विपक्व देखो विवक्व, 'निजियविपक्व-लक्खा' (सुभा १०२, २६०)।

विपक्विय वि [विपक्व] विरोधी, दुश्मन (सजोष ५६)।

विपचइय न [विप्रत्ययिक] बारहवें जैन अग्र ग्रन्थ का सूत्र-विशेष (सम १२८)।

विपचमाण वि [विपच्यमान] १ जो पकाया जाता हो वह (भा २०, स ८६), 'ग्रामासु अण्णामु विपचमाणामु मसपेसोयु' (सजोष ४४)। २ दग्ध होता, जलता, 'तत्त्विहान-लजालाविपचमाणेस्स मह निच' (रयण ४१)।

विपज्जय देखो विज्जय (राज)।

विपज्जास देतो विवज्जास (नाट—मुच्छ २२६)।

विपडवत्ति देखो विप्पडवत्ति (विसे २६१६, सम्मत २२८)।

विपडिसेह सक [विप्रति + सिध्] निषेध करना। कृ विपडिसेहेयच्च (भग ५, ७—पत्र २३६)।

विपणोह सक [विप्र + नोदय] प्रेरणा करना। निरणोहए (भाचा १, ५, २, २, पि २६६)।

विपण्ण देतो विपण्ण = विपण (चार ८)।

विपत्ति देता विपत्ति = विपत्ति (गा २८२ पत्र ११०)।

विपत्थायि (श) वि [विप्रस्तानित] प्रारब्ध, विमल प्रारब्ध क्रिया गया हो वह, 'एणम चत्तिमाण एण्ह परे वनहो विपत्थायि' (राज १२१)।

विपरानुत्त न [विपरा + अनुत्त] १ समारम्भ का विना उदारा। २ पीडा उपजाना, उदारा करना। ३ पक उदर होना, उदारा। विपरानुत्त विपरानुत्ति, विपरानुत्त (भा १, पि ५)। ४ विपरानुत्त।

विपराहुत्त वि [विपराङ्मुख] विशेष पराङ्मुख, अतिशय उदासीन (पउम ११५, २२)।

विपरिकम्म न [विपरिकर्मन्] शरीर की आकुञ्चन-प्रसारण आदि क्रिया (भाचा २, ८, १)।

विपरिकुचि वि [विपरिकुञ्चिन्] विपरिकुचित नामक बन्दन-बोधवाला, 'देसकहा-वित्तते कहेइ दरवदिए विपरिकुची' (बृह ३)।

विपरिकुचिय देखो विप्पल्लिउचिय (राज)।

विपरिखल अक [विपरि + खल] १ खलित होना, गिरना। २ भूल करना। वक्क, विपरिखलंत (अच्छु २२)।

विपरिणम अक [विपरि + णम] १ बदलना, रूपान्तर को प्राप्त होना। २ विपरीत होना, उलटा होना। विपरिणमे (पिड ३२७)। वक्क विपरिणममाण (भग ७, १०—पत्र ३२५)।

विपरिणय वि [विपरिणत] रूपान्तर को प्राप्त (पिड २६५)।

विपरिणाम सक [विपरि + णमय] १ विपरीत करना, उलटा करना। २ बदलवाना, रूपान्तर को प्राप्त करना। विपरिणामेइ (स ५१३)। हेक्क विपरिणामित्तए (उवा)।

विपरिणाम पु [विपरिणाम] १ रूपान्तर-प्राप्ति (भाचा, श्रोप)। २ उलटा परिणाम, विपरीत अर्थवसाय (वर्षस ५११)।

विपरिणामिय वि [विपरिणमित] रूपान्तर को प्राप्त (भग ६, १ टी—पत्र २५१)।

विपरिधाव सक [विपरि + धाव्] इधर उधर दोडना। विपरिधावई (उत्त २३, ७०)।

विपरियास देखो विप्परियास (राज)।

विपरिवसाय सक [विपरि + वासय्] रखना। विपरिवसावेइ (एयाया १, १२—पत्र १७५)। वक्क, विपरिवसावेमाण (एयाया १, १२)।

विपरीअ देखो विवरीअ (सूत्र १, १, ४, ५, गा ५६ अ)।

विपलअ अक [विपरा + अण्] दूर भागना। वक्क विपलअत (गा २६१)। विपलह्थ देमा विवल्ह्थ (पि २८५)।

विपरिस वि [विदर्शिन] देखनेवाला (भाचा)।

विपाग देखो विवाग (राज)।

विपिक्ख देखो विप्पेक्ख। वक्क, विपिक्खत (राज)।

विपिण देखो विविण (कुमा)।

विपित्त वि [दे] विकसित, खिला हुआ (दे ७, ६१)।

विपुल देखो विउल (एयाया १, १—पत्र ७५, कप्प, परह २, १—पत्र ६६)। °वाहण पुं [°वाहन] भारतवर्ष में होनेवाला बारहवां चक्रवर्ती राजा (सम १५४)।

विप्प न [दे] पुच्छ, डुम, पूँछ (दे ७, ५७)।

विप्प पुं [विप्र] ब्राह्मण, द्विज (हे १, १७७, महा)।

विप्प पु [विप्रुष्, विप्र] १ सूत्र और विद्या के विन्दु। २ विद्या और सूत्र, 'युत्तपुरीसाण विप्पुसो विप्पा अन्ने विडित्ति विष्ठा भासति य पत्ति पासवण' (विसे ७८१, श्रौप, महा)।

विप्पइह्ठ देखो विप्पगिट्ट (राज)।

विप्पइण्ण वि [विप्रकीर्ण] बिखरा हुआ, इधर उधर पटका हुआ (से २, ५, कस)।

विप्पइर सक [विप्र + कृ] इधर उधर पटकना, बिखरना। विप्पइरामि (उवा)। वक्क, विप्पइरमाण (एयाया १, ६—पत्र १५७)।

विप्पउज सक [विप्र + युज्] १ विरुद्ध प्रयोग करना। २ विशेष रूप से जोडना, 'अदुवा वायाओ विप्पउजति' (भाचा १, ८, १, ३)।

विप्पओअ } पु [विप्रयोग] अलहदा, अलग,
विप्पओग } जुदा, विरह, वियोग (उत्तर १५, स २८१, चड, पउम ४५, ४६, जी ४३, उत्त १३, ८, महा)।

विप्पकड वि [विप्रकट] विशेष रूप से प्रकट (भग ७, १०—पत्र ३२४)।

विप्पकिर देखो विप्पइर। वक्क विप्पकिरेमाण (एयाया १, १—पत्र ३६)।

विप्पक्ख देखो विपक्ख (पि १६६)।

विप्पगम्भिय वि [विप्रगम्भित] अत्यन्त घट (सूत्र १, १, २, ५)।

विचिंतन न [विचिन्तन] विचार, विमर्श (पृ ६)।
 विचिन्तिअ वि [विचिन्तित] विचारित (पुर ८, ३)।
 विचिन्तिर वि [विचिन्तियिच्] विचार-कर्ता (भा १२, सण)।
 विचिक्की स्त्री [दे] वाद्य-विशेष (राय ४६)।
 विचिग्गिच्छा स्त्री [विचिक्कित्सा] सशय, मंत्र-कार्य के फल की तरफ सदेह (सम्मत ५)।
 विचिद्धिअ वि [विचिद्धित] १ जिसकी शोशिश की गई हो वह (सुपा ४७०)। २ चैष्टा, प्रयत्न (उप ३२० टी)।
 विचिचण सक [वि + चि] १ खोज विचिचण करना। २ फूल आदि चुनना। विचिचणति (पि ५२)। वक्क विचिचणत (भा ४९)।
 विचिचित्त वि [विचित्र] १ विविध, अनेक तरह का, 'विचिचित्तवो कम्मोहि' (महा, ११५, प्रासु ४२)। २ अद्भुत, आश्चर्यकारक, 'विहिणो विचित्तय जाणिऊण' (सुर १३, ४)। ३ अनेक रंगवाला, शबल (शाया १, ६, कप्प)। ४ अनेक चित्रों से युक्त (कप्प, मुज्ज २०)। ५ पु पर्वत विशेष (पएह १, ५—पत्र ६४)। ६ वेणुदेव और वेणुदारि नामक इन्द्रों का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७)। ७ कूड पु [कूट] शीतोदा नदी के किनारे पर स्थित पर्वत विशेष (इक)। ८ पत्त्र पु [पक्ष] १ वेणुदेव और वेणुदारि नामक इन्द्रों का एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७, इक)। २ चतुरिन्द्रिय जतु की एक जाति (पएण १—पत्र ४६)।
 विचित्ता स्त्री [विचित्रा] ऊर्ध्व लोफ मे रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ७—पत्र ४३७)। २ अघोलोक मे रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (राज)।
 विचित्तिय वि [विचित्रित] विचित्रता से उर (सण)।
 विचिचोद (शो) देखो विचिअ (नाट—ती १४१)।
 विचिचण न [विचिचण] चूर-चूर करना (पत्र १३०)।

विचेयण वि [विचेतन] चैतन्य-रहित, निर्जीव (उप पृ ४९)।
 विचेल वि [विचेल] बद्ध-वर्जित, नगा (पिंड ४७८)।
 विच सक [वि + अय] व्यय करना। विच्चेइ (तो ८)। देखो विच्य।
 विच पुन [दे] व्यूत, बुनने की क्रिया (राय ६२)।
 विच न [दे वरमेन्] १ बीच, मध्य, 'विचचम्मि य सज्जाम्मो कायव्वो परमपयहेकं' (पुप्फ ४२७), 'ठिओ अहं कूडकवाडविच्चे' (निसा १६)। २ मार्ग, रास्ता (हे ४, ४२१, कुमा. भवि)।
 विच सक [दे] समीप मे आना। विचचइ (भवि)।
 विचवण न [विच्यवन] अश, विनाश (विसे २६१)।
 विचामेलिय वि [न्यत्याओ छित] १ भिन्न भिन्न अशों से मिश्रित। २ अस्थान मे ही छिन्न हो कर फिर श्रथित, तोड़ कर सांधा हुआ (विसे ८५५)।
 विचाय पु [वित्याग] परित्याग, 'पूयम्मि वीयराम भावो विप्पुरइ विसयविच्चाया' (सवोध ८)।
 विचि स्त्री [वाचि] तरंग, कल्लोल (पउम १०६, ४१)।
 विचु } देखो विचुअ (उप ५६३, पि विचुअ } ५०, पएण १—पत्र ४६)।
 विचुइ स्त्री [विच्युति] अश, विनाश (विसे १८०)।
 विचोअय न [दे] उपधान, ओसीसा (दे ७, ६८)।
 विच्छं देखो विअ = विद।
 विच्छड्डु सक [वि + छदय] परित्याग करना। वक्क विच्छड्डुमाण (शाया १, १८—पत्र २३६)। सक. विच्छड्डुइत्ता (कप्प)।
 विच्छड्डु पुं [विच्छट्टे] १ ऋद्धि, वेमन, संपत्ति (प्राग्ग दे ७, ३२ टी, हे २, ३६, पड्)। २ विस्तार (कुमा, सुपा १६२)।
 विच्छड्डु पुं [दे] १ निवह, सप्रद (दे ७, ३२, गउड, से २, २, ६, ७२, गा ३८७)।

२ टाटवाट, सजघज, धूमधाम, 'मह्या विच्छड्डेण सोहणलगम्मि गुरुपमोएण'। कमलावई उ रत्ना परिणीया' (सुर १, १६६; कुप्र ४१; सम्मत १६३, धर्मवि ८२)।
 विच्छड्डु स्त्री [विच्छाद] १ विशेष वमन। २ परित्याग (प्राग्ग)। ३ विस्तार, 'निम्मलो केवलालोअलच्छिविच्छि (? च्छ) द्विकारणो' (सिदि १०६१)।
 विच्छड्डुअ वि [विच्छदित] १ परित्यक्त, 'पामुक्क विच्छड्डुअ अवहत्थिअ जग्गिअ चत्त' (प्राग्ग, शाया १, १, ठा ८, औप)। २ विक्षिप्त, फेंका हुआ (से १०, ४६)। ४ विच्छादित, प्राच्छादित (हम्मोर १७)।
 विच्छड्डुमाण देखो विच्छड्डु = वि + छदय।
 विच्छदिय देखो विच्छड्डुअ (नाट—मागती १२६)।
 विच्छय वि [विक्षत] विविध तरह से पीडित (सुष १, २, ३, ५)। देखो निक्कय।
 विच्छल देखो विचभल (पड् ४०)।
 विच्छवि वि [विच्छवि] १ विरूप प्राकृत-वाला, कुडौल (पएह १, ३—पत्र ५४)। २ पु. एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८)।
 विच्छाडिय वि [विच्छाडित] निस्तेज किया हुआ (सुपा १६६)।
 विच्छाय वि [विच्छाय] निस्तेज, कालि-रहित, फोका (सुर ४, १०६, कप्प, प्रासु १३७, महा, गउड)।
 विच्छाय सक [विच्छायय] निस्तेज करना, विच्छापइ मियक तुसारविखा अणुयुयोवि' (गउड)। वक्क. विच्छायअ (कप्प)।
 विच्छिअ वि [दे] १ पादित, विदारित। २ विचित, जुना हुआ। ३ विरल (दे ७, ६१)।
 विच्छिअ देखो विच्छिअ (उत्त ३६, १६८, पि ५०, ११८, ३०१)।
 विच्छिद सक [वि + छिद्] ताडना, अलग करना। विच्छिद (पि ५०६)। भग्गि विच्छिविहिति (पि ५३२)। वक्क. विच्छिद-माण (भग ८, ३—पत्र ३६५)।
 विच्छिण्य वि [विच्छिन्न] अलग किया हुआ (विपा १, २ टि—पत्र २८, नाट—मुन्द ८६)।

विष्परियासणा स्त्री [विपर्यासना] व्यत्यय करना (निनु ११)।

विष्परुद्र वि [विप्ररुद्र] तिरस्कृत, 'हयनिह यविष्पन्द्धो द्वयो' (पउम ८, ८५)।

विष्पल देखो विष्प = विप्र (आच ३७)।

विष्पलभ सक [विप्र + लभ्] ठगना। विष्पलभेमि (स ५०६)।

विष्पलभ पु [विप्रलभ्] १ वञ्चना, ठगई (उप २४)। २ शृङ्गार को एक अवस्था— जिसमें उत्कृष्ट अनुराग होने पर भी प्रिय समागम नहीं होता (सुपा १६४)। ३ विषयाम, व्यत्यय, वैपरोत्य (घमंस ३०४)। विरह, विधोग (वप्पू)।

विष्पलभय वि [विप्रलभक] प्रतारक, ठगनेवाला (मुच्छ ४७)।

विष्पलभय वि [विप्रलभित] १ प्रतारित। २ निरहित (सुपा २१६)।

विष्पलव वि [विप्रलव] वञ्चित, प्रतारित (चाव ६५ स ४१८, ६८०)।

विष्पलय पुन [दे] विविधता, विचित्रता, 'तददु ना सद्य जाणइ सवधविष्पलय' (घमनि १२०)।

विष्पलविद (शो) न [विप्रलपित] निरर्थक पान वचवाद (स्वप्न ८१)।

विष्पलाय न दत्तो निष्पलाय। भूका, विष्पला-इया (मिया १, २—पत्र २६)। वक्त्र विष्पलायमाण (साया १, १—पत्र ६५)।

विष्पलाय पु [विप्रलाय] १ परिवेदन, विष्पलाय } गाना, कन्दन, 'अविश्रोगो विष्प-

लाया' (उदु ८०, खण ६४)। २ निरर्थक वचन प्रसार (उत्त १०, ३३)। ३ निष्ठा-नाम (पउम ६६, ६८)।

विष्पलाय वि [विप्रकुञ्चित] गुरु-कर्म या एक क्षण, सपूर्ण कन्दन न करके बोल के बात गेत करने लग जाना (पव २—गाथा १५०)।

विष्पलाय वि [विप्रलोपक] लूटनेवाला, सुपा (पए १, ३—पा ६६)।

विष्पलाय वि [विप्रलोभन] लुभानेवाला (उ ७६३)।

विष्पलवु [विष्पलव] १ द्य न उपद्रव, शक्ति। २ ल' लता के उपद्रव प्रादि ने नर (१२, १०६)। ३ शरीर को निम्न-गुण, घना भाग (सुमा)।

विष्पवर न [दे] भ्रजातक, भिलावा (दे ७, ६६)।

विष्पवस अक [विप्र + वस्] प्रवास में जाना, देशान्तर जाना। सक विष्पवसिय (आचा २, ५, २, ३)।

विष्पवसिय वि [विप्रोषित] देशान्तर में गया हुआ, प्रवास में गया हुआ (साया १, २—पत्र ७६, १, ७—पत्र ११५)।

विष्पवास पु [विप्रवास] प्रवास, देशान्तर-गमन (प्रति १००)।

विष्पसन्न वि [विप्रसन्न] १ विशेष प्रसन्न, खुश। २ प्रसन्न-चित्त का मरण (उत्त ५, १८)।

विष्पसर अक [विप्र + स्] कैलना। भूका, 'वहने हृत्थी... दिसो दिस विष्पसरित्था' (पि ५१७)।

विष्पसाय सक [विप्र + सादय] प्रसन्न करना। विष्पसाय (आचा १, ३, ३, १)।

विष्पसीअ अक [विप्र + सद्] प्रसन्न होना। विष्पसीएज (उत्त ५, ३०, सुख ५, ३०)।

विष्पहय वि [विप्रहत] आहत, जखमी (सुर ६, २२१)।

विष्पहाइय वि [विप्रभाजित] विभक्त, बँटा हुआ (श्रौप)।

विष्पहीण } वि [विप्रहीण] रहित, वञ्चित
विष्पहूण } (स ७७, स १६१, पि १२०, ५०३)।

विष्पावाग वि [दे] हास्य-कर्ता, उपहास करनेवाला (सुख १, १३)।

विष्पिय पुन [विप्रिय] १ अप्रिय, अनिष्ट (साया १, १८—पत्र २१३, गा २५०, से ४, ३६, हे ४, ४२३)। २ अपराध, गुनाह (पात्र)। ३ आरय वि [कारक] १ अप्रिय-कर्ता। २ अपराध-कर्ता (हे ४, ३४३)।

विष्पिडिअ वि [दे] नाशित (दे ७, ८०)।

विष्पीइ स्त्री [विप्रोति] अप्रोति (पएह १, ३—पत्र ४२)।

विष्पु स्त्री [विष्पु] विन्दु, अवयव, अश, 'मुत्तपुसेसाण विष्पुसा विष्पा' (श्रौप, विते ८६)।

विष्पुज वि [विष्पुज] उपद्रुत, उपद्रव युक्त (दे ६, ७६)।

विष्पुस पुंन. देखो विष्पु, 'असुइस्स विष्पु-सेणवि' (पिड १६५)।

विष्पेक्ख सक [विप्र + ईक्ष्] निरीक्षण करना, देखना। वक्त्र विष्पेक्खत (पएह १, १—पत्र १८)।

विष्पेक्खिअ वि [विप्रोक्षित] निरीक्षित (पएह २, ४—पत्र १३१, भग ६, ३३—पत्र ४६६)।

विष्पोसहि स्त्री [विप्रौषधि] आध्यात्मिक-शक्ति-विशेष, जिसके प्रभाव से योगी के विद्या और मूत्र का विन्दु श्रोषधि का काम करता है (पएह २, १—पत्र ६६, श्रौप, विते ७७६, सति २)।

विष्पद अक [वि + स्पन्द] इधर-उधर चलना, तडफना। वक्त्र विष्पदमाण (आचा)।

विष्पदिअ वि [विस्पन्दित] इधर-उधर सटका हुआ, परिभ्रान्त,

'खज्जेतेण जलयले सकम्म-

विष्पडि(दि)एण जीवेण।

तिरियभवे दुक्खाईं छुहतएहा-

ईणि भुत्ताइ' (पउम ६५, ५२)।

विष्परिस पु [विस्पर्श] विरुद्ध स्पर्श (प्राप्र)।

विष्पाडग वि [विपाटक] चौरनेवाला, विदारक (पएह १, ४—पत्र ७२)।

विष्पाडिअ वि [दे विपादित] नाशित (दे ७, ७०)।

विष्पारिय वि [विस्फारित] १ विस्तारित (उप पु १५२)। २ विकासित (सुपा ८३)।

विष्पाल सक [दे] पुच्छना, पुच्छा करना। विष्पालेइ (वव १)।

विष्पाल देखो विफाल। सक विष्पालिय (राज)।

विष्पाल पु [दे] पुच्छा, प्रसन (वव १ टी)।

विष्पालणा स्त्री [दे] अपर देखो (वव १ टी)।

विष्पालिय देखो विष्पारिय (राज)।

विष्फुड वि [विस्फुट] स्पष्ट, व्यक्त (रंभा)।

विष्फुर अक [वि + स्फुर] १ होना। २ विकसना। ३ तडफटना। ४ फरकना, हिलना। विष्फुरइ (सवीष ३४, काल, मवि)।

वक्त्र विष्फुरत (उत्त १६, ५४, पउम ६३, ३)।

२२६, इक)। १६ क्षेत्र-विशेष, महाविदेह वर्ष का प्रान्त-मुल्य प्रदेश (ठा ८—पत्र ४३५, इक, जं ४)। २० उल्लेख, 'जएण विजएण वद्धवेइ (एणाय १, १—पत्र ३०, श्रौप, राय)। २१ परामत्र करके ग्रहण करना (कुमा)। २२ विक्रम की प्रथम शताब्दी के एक जैन आचार्य (पत्रम ११८, ११७)। २३ अमृदय (राय)। २४ समुद्धि (राज)। २५ घात की खण्ड का पूर्व द्वार (इक)। २६ कालोद समुद्र, पुष्कर-वर्द्धीय तथा पुष्करोद समुद्र का पूर्व द्वार (राज)। २७ रचक पर्वत का एक कूट (ठा ८—पत्र ४३६, इक)। २८ एक राजकुमार (धम्म ११)। २९ छन्द-विशेष (पिंग)। ३० वि जीतनेवाला, चरतुरए विहागहिविजयवेषधरे (सम्मत्त २१६)। °चरपुर न [°चरपुर] एक विद्याधर-नगर (इक)। °जत्ता ली [°यात्रा] विजय के लिए किया जाता प्रयाण (धर्मवि ५६)। °ढक्का ली [°ढक्का] विजय-सूचक भेरी (सुपा २६८)। °देव पु [°देव] अठारहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य (ग्रन्थ १)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (इक २२३, २२४, ३२६)। °पुरा, पुरी ली [°पुरी] पद्मकावती नामक विजय-क्षेत्र की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०, इक)। °माण पु [°मान] एक जैन आचार्य (द्र ७०)। °वत वि [°वत्] विजयी, विजेता (ति १४)। °वत्त न [°वर्त] चैत्य-विशेष (कल्पविष्णुक)। °वद्धमाण पुंन [°वर्धमान] ग्राम-विशेष (विपा १, १)। °वेजयती ली [°वैजयन्ती] विजय सूचक पताका (श्रौप)। °सायर पुं [°सागर] एक सूर्यवंशी राजा (पत्रम ५, ६२)। °सिह, °सीह पु [°सिह] १ मुप्रसिद्ध प्राचीन जेना-चार्य (सुपा ६५८)। २ एक विद्याधर राज-कुमार (पत्रम ६, १५७)। °सूरि पु [°सूरि] चन्द्रयुग के समय का एक जैन आचार्य (धर्मवि ४८)। °सेण पु [°सेन] एक प्रतिष्ठित जैन आचार्य जो भ्राह्मण्य सूरि के शिष्य थे (पत्र २७६—गाथा १५६६)।
विजयता } ली [विजयन्ती] १ पक्ष की
विजयती } छाठवीं रात (सुज १०, १८)।
२ एक रातो का नाम (उप ७२८ ले)।

विजया ली [विजया] भगवान् शान्तिनाय की दीक्षा-शिविका (विचार १२६)।
विजया ली [विजया] १ भगवान् अजित-नाथजी की माता का नाम (सम १५१)।
२ पांचवें बलदेव की माता (सम १५२)।
३ आरारक यादि ग्रहो की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। ४ विद्या-विदेश (पत्रम ७, १४१)। ५ पूर्व-रुचक पर रहनेवाली एक दिम्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६)। ६ पांचवें चक्रवर्ती राजा की पटरानी—स्त्री-रत्न (सम १५२)। ७ विजय नामक देव की राजधानी (सम २१)। ८ वप्रा नामक विजय की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०, इक)।
९ पक्ष की सातवीं रात (सुज १०, १४)।
१० एक श्रेष्ठिनी (सुपा ६२६)। ११ भगवान् विमलनाथजी की शासन-देवी (पत्र २७, सति १०)। १२ भगवान् सुमतिनाथजी की दीक्षा-शिविका (सम १५१)। १३ एक पुष्करिणी (इक)।
विजल वि [विजल] १ जल-रहित (गउड)।
२ न जल-रहित पक (दस ५, १, ४)।
देखो विजल।
विजह सक [वि + हा] परित्याग करना।
विजहइ (पि ५७७)। सक, विजहिन्तु (उत्त ८, २)।
विजहणा ली [विहान] परित्याग (ठा ३, ३—पत्र १३६)।
विजाइय वि [विजातीय] मिला जाति का,
दूसरी तरह का (उप १२८ ले)।
विजाण देखो विजाण = वि + जा। सक
विजाणित्ता, विजाणिय (कम्प)।
विजाणाय } वि [विजायक] जाननेवाला,
विजाणय } विज (आचा, मूप्रति १४५)।
विजाणुअ वि [विज, विजायक] ऊपर देवो
(प्राक १८)।
विजादीअ (शौ) देखो विजाइय (नाट—वैत ८८)।
विजाय न [दि] लय, निशाना, 'लव्त्तं
विजाय' (पाम्र)।
विजिअ रि [विजित] पराजित, क्षय हुआ
(सुर ६, २५, त ७००)।

विजुत्त वि [विजुत्त] विरहित (धर्म १७४)।
विजुरि (अप) ली [विजुत्त] विजलो
(पिंग)।
विजेइ वि [विज्येइ] मध्यम, जेठु विजेइ
कण्ठिअ य' (चिइय १५३)।
विजेतन्व देखो विजय = वि + जि।
विजोज सक [वि + योजय्] वियोग
करना, अलग करना। सक विजेजिय
(पत्र ५, १२६)।
विजोजण न [वियोजन] वियोग, विरह
(मोह ६८)।
विजोजिअ रि [वियोजिन] जुदा किया
हुआ (कुप्र २८८)।
विजोयावइत्तु वि [वियोजयित्] वियोजक,
अलग करनेवाला (ठा ४, ३—पत्र २३८,
२३६)।
विजोहा ली [विजोहा] छन्द विशेष (पिंग)।
विज्ज अक [विद्] होना। विज्जइ, विज्जए
(पइ, कस, भग, महा), विज्जइ (मूप्र १,
११, ६)। चक, विज्जत, विज्जमाण (सुर
२, १७६, पंचा ६, ४७)।
विज्ज सक [वीजय्] पछा चलाना, हवा
करना। कर्म, विज्जज्जइ (भनि)। कन्ठ,
विज्जिज्जत (पत्रम ६१, ३७, वग्गा ३६)।
विज्ज पु [वेद्य] चिन्त्यक, हकीम (सुर
१२, २४, नाट—पिक ६५)।
विज्ज पु व. [दि] देश विशेष (पत्रम ६८,
६५)।
विज्ज पु [विद्वस्, विज्ज] परिउड, जानार
(हे २, १५, कुमा, प्राक १८, मूम १, ३,
५)।
विज्ज देवा त्रोरिज (पत्र ३०, ३०)।
विज्ज' देखो विज्जा। °उम्मा (प्रा) श्यो
विज्जा-हर (ति २१६)। °तिव रि [विज्जा-
दाय, मन्दासो (सम्मत्त १२३)।
विज्ज' देवा विज्जु (सुर ३६६)।
°विज्जन्त देवो विज्जन्त (सं २, २४, ति
६०३)।
विज्जन्त न [विज्जन्त] विज्जन्त (उप ८, १०
भनि)।

विभय देवो विभज्ज । विभए, विभयति (कम्म ६, ३१, आचा, उत्त १३, २३) ।

विभयणा छी [विभजना] विभाग (सम्म १०१) ।

विभर सक [वि + रम्] विस्मरण करना, भूल जाना । विभरइ (पि ३१३) ।

विभय देवो विहव (उव, महा) ।

विभवण न [विभवन] विलुप करण, खराब करना (राज) ।

विभाइम वि [विभाज्य] विभाग योग्य (ठा ३, २—पत्र १३८) ।

विभाइम नि [विभागिम] विभाग से बना हुआ (ठा ३, २—पत्र १३८) ।

विभाग पु [विभाग] अथा, बटि (काल, सण) ।

विभागिम देवो विभाइम = विभागिम (उप पु १४१) ।

विभाय देवो विभाग (रभा) ।

विभाय न [विभात] प्रकाश, कान्ति, तेज (सण) ।

विभाय पू [विभाय] परिचय, 'कस्त विस-मदयाविभायो न होइ' (म १६८) ।

विभाव मक [वि + भावय्] १ विचार करना, न्याय करना । २ विवेक से ग्रहण करना । ३ समझना । बहु विभावन, विभाव-यैत, विभावेमाण (पुपा ३७७, उप ५६७ टी, वण) । ४ अहं नानाविज्जत, विभा-विज्जमाग (सि ८, ३२, स ७५०) । हेहू विभावेत्तण (रा) । ५ विभावणीय (पुष्क ३५८) ।

विभाय देवा विभय, 'तसो महाविभावेण पुच्छण पेयाग मत्त म' (पग) ।

विभायसु पु [विभायसु] १ सुख, रवि । २ रवियार (पज्ज १७, १७७) । देवो विभायसु ।

विभायि वि [विभायि] विचारित (राज) ।

विभाय रत्त [वि + भाय्] १ विशेष रूप । २ अज्ञान । ३ विद्वान् । विभाय रत्ता । विभाय (पत्र ७३ टी) । ४ विभायिपत्र (उत्तनि ३६, ४००)

पिड १२४) । हेहू, विभासिउ (विमे १०८५) ।

विभासण न [विभाषण] व्याख्या, व्याख्यान (विस १४२८) ।

विभासय वि [विभाषक] व्याख्याता, व्याख्या-कर्ता (विसे १४२५) ।

विभासा छी [विभापा] १ विकल्प-विधि, पाक्षिक प्राप्ति, भजना, विधि और निषेध का का विधान (पिड १४३, १४४, १४५, २३५, ३०२, उप ४१५ टी द्र १६) । २ व्याख्या, विवरण, स्पष्टीकरण (विसे १३८५, १४२१, पिड ६३७) । ३ विज्ञान, निवेदन (उप ६८०) । ४ विविध भाषण (पिड ४३८) । ५ विशेषोक्ति (वेवन्त्र ३६७) । ६ परिभाषा, सकेत (कम्म १, २८, २६) । ७ एक महानदी (ठा ५, ३—पत्र ३५१) ।

विभासिय वि [विभासित] प्रकाशित, उद्घोषित (सम्मत्त ६२) ।

विभिण्ण } देवो विहिण्ण = विभिन्न (गडड विभिन्न } ५७०, ११८०, उत्त १६, ५५) ।

विभीसण पु [विभीषण] १ रावण का एक छोटा भाई (पज्ज ८, ६२) । २ विवेह वर्ष का एक वायुदेव (राज) ।

विभीसावण वि [विभीषण] भय-जनक, भयकर (भवि) ।

विभीसिया छी [विभिषिका] भय-प्रदर्शन (उव) ।

विभु पु [विभु] १ प्रभु, परमेस्वर (पज्ज ५, ११२) । २ नाय, स्वामी, मालिक (पज्ज ७०, १२) । ३ इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम (पज्ज ५, ७) । ४ वि व्यापक (विसे १६८५) ।

विभूइ छी [विभूति] १ ऐश्वर्य, वेभव (उव, श्रौप) । २ ठाट्ठाट, धूमधाम, 'महाविभूई चलिमो जिएजत्ताए' (सुर ३, ६२, महा) । ३ ग्रहिया (पएह २, १—पत्र ६६) ।

विभूसण न [विभूपण] १ अलंकार, गहना । २ शोभा, दिव्यालंकारविभूषण' (उव, श्रौप) ।

विभूमा छी [विभूपा] १ मिगार की सजा-वट, शरीर पर अलंकार-वस्त्र आदि की सजा-वट (आचा १, २, १, ३, श्रौप, जीव ३) ।

२ शरीर-शोभा, 'मेहुणाओ उवसतस्स कि विमुसाइ कारिअ' (वस ६, २, ६५, ६६; ६७, उत्त १६, ६) ।

विभूसिय वि [विभूषित] विभूषा-युक्त, अलंकृत, शोभित (भग, उत्त १६, ६, महा-विपा १, १—पत्र ७) ।

विभेद } पु [विभेद] १ भेदन, विदारण } (धम्मस ८२६), 'जयवारणकुभ-विभेयकत्तमे' (गडड, उव ७२८ टी) । २ भेद, प्रकार, 'उद्धाहोतिरियविभेय तिहुयणपि' (वेइय ६६४) ।

विभेयग वि [विभेदक] भेदनकर्ता, परमम-विभेयगो' (धम्मवि ७६) ।

विमइ छी [विमति] छन्द-विशेष (पिंग) ।

विमइअ वि [दे] भविष्यत, तिरस्कृत (दे ७, ७१) ।

विमउल वि [विमुकुल] विकसित, खिला हुआ (आया १, १ टी—पत्र ३, श्रौप) ।

विमतिय वि [विमन्त्रित] जिसके बारे में मह-लहत—युक्त युक्ति की गई हो वह (सुर ११, ६७) ।

विमसिअ वि [विमृष्ट, विमर्शित] विचारित-पयलोचित (सिदि १०४५) ।

विमग देवो विमय (राज) ।

विमग्ग सक [वि + मागेय्] १ विचार करना । २ अन्वेषण करना, खोजना । ३ प्रार्थना करना, मागना । ४ इच्छा करना, चाहना । विमग्गइ, विमग्गहा (उव, उत्त १२, ३८) । बहु, विमग्गत, विमग्गमाण (गा ३५१, सुर २, १७, से ४, ३६, महा) ।

विमग्गिअ वि [विमार्गित] १ याचित-मंगा हुआ (सिदि १२७, सुर ४, १०७) । २ अन्वेषित, गवेपित (पाअ) ।

विमज्ज न [विमज्ज] अन्तराल (राज) ।

विमण वि [विमनस्] १ विपण, खिन्न, शोक-सन्तप्त (कप्प, सुर ३, १६८, महा) । २ शून्य-चित्त, सुख चित्तवाला (विपा १, २—पत्र २७) । ३ निराश, हताश (गा ७६) । ४ जिसका मन अशून्य गया हो वह (मे ४, ३१, गडड) ।

विज्म सक [व्यध्] वीवना, वेध करना, भेदना। विज्मति (सूत्र १, ५, १, ६), विज्मते (गा ४४१) सक विद्भृण (सूत्र १, ५, १, ६)। कृ विज्म (पङ्)।

विज्म अक [वि + घट्] अलग होना। विज्मइ (घाटग १५२)।

विज्म न [दे] वीर, घनका, ठेला। 'तो हृथो तम्मि पडे विज्म दाऊण कुमरमणु-मगे' (धर्मवि ८१), 'साव वणुवारणेण य विज्माइ

(? इ) नर अपावमारोण

कुविणएण विइएणाइ वणिय

नगोहृवखम्मि' (स ११३)।

विज्म वि [विद्ध] विधा हुआ, 'जइ तपि तेण बाणेण विज्मते जेण ह विज्मा' (गा ४४१)।

विज्म देखो विज्म = व्यध्।

विज्मडिय वि [दे] १ मिश्रित, व्याप्त, 'सीउएहृखरपत्तवायविज्मडिया' (भाग ७, ६—पत्र ३०७, उव)।

विज्मल देखो विज्मल = विह्वल (भाग ७, ६ टी—पत्र ३०८)।

विज्मन्न सक [वि + ध्यापय्] बुझाना, दीपक प्रादि को गुल करना, ठंडा करना। विज्मन्नइ (गउड, कुत्र ३६७)। कर्म विज्मन्नइ (गा ४०७, स ४८६)। सक. विज्मन्नैऊणं, विज्मन्निय (धर्मसं ६५८, स ४६६)। कृ विज्मन्नियच्च (पउम ७८, ३७)।

विज्मन्नण छोन [विध्यापन] बुझाना, उप-शान्ति (स ४८६, सम्मत १६२, कुप्र २७०)। छी णा (सया १०६)।

विज्मविअ वि [विध्यापित] बुझाया हुआ, गुल किया हुआ, ठंडा किया हुआ (सि ८, १६, १२, ७७, गा ३३३, पउम २०, ६२)।

विज्मा } अक [वि + ध्यै] बुझाना, ठंडा
विज्माअ } होना, गुल होना। विज्माइ (गा ४३०, हे २, २८)। वकृ. विज्माअत (गा २०६)।

विज्माअ } वि [विध्यात] ? बुझा हुआ,
विज्माअ } उपशांत (सि १, ३१, याया १, ६—पत्र ६६, १, १४—पत्र १६०)।

गउड, सुपा ४४८, प्रासू १३७, पउम ५, १८२)। २ संक्रम-विशेष, 'विज्मायानाम-गेण सकममेतेण सुज्मति' (सम्यक्त्तो २१)। विज्माव देखो विज्मन्न। विज्मावेइ (गा ८३६)।

विज्मावण देखो विज्मन्नण (उप २६४ टी)।

विज्माविअ देखो विज्मविअ (महा)।

विज्मडिय पु [दे] मत्स्य की एक जाति (पएण १—पत्र ४७)।

विट्ठ देखो विडक (माल २३४, राज)।

विट्ठाल सक [दे] अस्पृश्य करना, उच्छिष्ट करना, विगाडना, दूषित करना, अपवित्र करना। विट्ठालिअ (मुख १, १५)। कर्म 'विट्ठालिज्जइ गगा कयाइ किं वासवारोहं' (वेइय १३४)। वकृ विट्ठालयंत (सिरि ११३२)।

विट्ठाल पु [दे] अस्पृश्य-संसर्ग, उच्छिष्टता, अपवित्रता, 'गृह धरम्मि चडाली, विट्ठाल कुणइ', 'सा घरवाहिं चिट्ठइ भुजइ य, न तेण देव विट्ठालो' (कुप्र २४३, हे ४, ४२२)।

विट्ठालण न [दे] ऊपर देखो (स ७०१)।

विट्ठालि वि [दे] विगाडनेवाला, अपवित्र करनेवाला। छी णो (कप्पु)।

विट्ठालिअ वि [दे] उच्छिष्ट किया हुआ, अपवित्र किया हुआ, विगाडा हुआ (धर्मवि ४५, सिरि ७१६, सुपा ११५, ३६०, महा)।

विट्ठी छी [दे] गहरी, पोटीली (श्रीष ३२४)। देखो विटिया।

विट्ठ वि [वृष्ट] बरसा हुआ (हे १, १३७, पङ्)।

विट्ठ वि [विष्ट] १ प्रविष्ट, बैठा हुआ (सूत्र १, ३, १, १२)। २ उपविष्ट, बैठा हुआ (पिड ६००)।

विट्ठ वि [दे] सुत्तोत्थित, सो कर उठा हुआ (पङ्)।

विट्ठअ न [विष्टप] उवन, जगत (मृच्छ १०६)।

विट्ठअ सक [वि + ट्ठभ्य्] १ रोकना। २ स्थापित करना, रखना। विट्ठंति (श्रीष)। सक. विट्ठभित्ता (श्रीष)।

विट्ठभणया छी [विट्ठभना] स्थापना (श्रीष)।

विट्ठर पुन [विष्टर] प्राप्त, 'विट्ठरो' (प्राप्र, पउम ८०, ७, पाप्र, सुपा ६०)।

विट्ठा छी [विष्टा] वोट, पुरीष, मल (पाप्र, श्रीषभा २६६, प्रासू १५८)। 'हर न [गृह] मलोत्तमगं स्थान, ट्ठी (पउम ७४, ३८)।

विट्ठि छी [विष्टि] १ कर्म, काज, काम (दे २, ४३)। २ ज्योतिष प्रसिद्ध एक करण, अर्धं तिथि (विसे ३३४८, स २६५, गण १६)। ३ भद्रा नक्षत्र (सुर १६, ६०)। ४ वेगार, मजूरी दिए बिना ही जवरदस्ती या वेमन का कराया जाता काम (उर ६, ११)।

विट्ठि छी [वृष्टि] वर्षा, बारिश (हे १, १३७, प्राकृ ८, सखि ५, पउम २०, ८७, कुमा, रभा)। देखो वुट्ठि।

विट्ठित वि [दे] अर्जित (पङ्)।

विट्ठिय न [विस्थित] विशिष्ट स्थिति (भा ६, ३२ टी—पत्र ४६६)।

विड पु [विट] १ भंड, भा (कुमा, सुर, ३, ११६, रभा)।

विड न [विड] लक्षण विशेष, एक तरह का नमक (दस ६, १८)।

विडक पुन [विट्क] कपोतपाली, प्रासाद आदि के आगे की झोर फाट का बना हुआ पहियो के रहने का स्थान, छतरी (याया १, १—पत्र १२, दे ७, ८६, गउड)।

विडकिआ छी [दे] वेदिका, वेदी, चादरा (दे ७, ६७)।

विडग देखो विडक (पएह १, १—पत्र ८)।

विटग पुन [विडग] १ शीघ्र विशेष। २ वि प्रमित, विदग्ध,

'विज्ज न एतो जरमो न

य वाहो एस कोवि समुपपो।

उवसमइसलोणेण विडगनेमा-

मयरदेण' (पग्गा १०६)।

विडन सक [वि + डन्वय्] १ तिरना करना, अपमान करना। २ दुःख देना। ३ नष्ट करना। विडनर, विडवति, विडमन (नवि, सुप्र १६६, उ ६२३)। पङ्.

विमुक्ख पु [विमोक्ष] छुटकारा, मुक्ति (से ११, ५६. आचानि २५८, २५९. अजि ५) । विमुक्खण देखो विमोक्खण (उत्त १४, ४. कप्र ३६६) ।

विमुञ्छिअ वि [विमुञ्छित] मूर्छा-प्राप्त (से ११, ५६) ।

विमुत्त देवो विमुक्क 'मुत्तिविमुत्तेसुवि' (पिंड ५६) ।

विमुत्ति वी [विमुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति (आचानि ३४३, कप्र १६) । २ आचाराग सूत्र का अन्तिम अव्ययन (आचा २, १६, १२) । ३ अहिंसा (परह २, १—पत्र ६६) । विमुयण न [विमोचन] परित्याग (सबोध १०) ।

विमुह वि [विमुख] १ पराट्-मुख, उदासीन (गउड, सुपा २८, भवि) । २ पु एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २८) । ३ पुन आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६) ।

विमुह अक [वि + मुह] धवराणा, व्याकुल होना, बेचैन होना । वरु विमुहिज्जत (से २, ८६, ११, ४६) ।

विमुहिअ वि [विमुग्ध] धवराया हुआ (से ८, ८८, गा ७६२) ।

विमुहिअ वि [विमुग्ध] पराट्-मुख किया हुआ (परह १, ३—पत्र ५३) ।

विमूढ वि [विमूढ] १ धवराया हुआ । २ अस्फुट, अस्पष्ट (गउड) ।

विमूर्ण वि [विभञ्जक] तोडनेवाला, खण्डन-कर्ता, 'ज मंगल वाहुगल्लिम्मा प्राप्ति तेअस्सिणो माणविपूरणस्स' (मगल १०) ।

विमोद्ध वि [विमोचित] छुड़ाया हुआ (गाया १, २—पत्र ८८, सण) ।

विमोक्ख देवा विमुक्ख (से ३, ८) ।

विमोक्खण न [विमोक्षण] १ छुटकारा, पुर्णता, कथन मात्र (पाचा, सूत्र २, ७, १०, पत्र १०२, १८८, ६८, ७४२) । २ वि. मुग्धनेवाला, विमुक्त करनेवाला, 'सन्नुत्तमात्ताण' (सुप्र १, ११, २, २, ७, १०) । ३ 'गी' (उत्त २६, १) ।

विमोक्खण वि [विमोक्षक] छुटकारा पाने-वाला, 'उत्ता विमोक्खण' (सुप्र १, १, २, ४) ।

विमोडण न [विमोटन] मोडना (दे) ।

विमोत्तव्व देखो विमुच ।

विमोय सक [वि + मोचय्] छुड़ाना, मुक्त करना । सक विमोडऊण (सण) ।

विमोय देखो विमुच ।

विमोयग वि [विमोचक] छोडनेवाला, दूर करनेवाला, 'न ते दुक्खविमोयगा' (सुप्र १, ६, ३) ।

विमोयण न [विमोचन] १ छुटकारा, मुक्ति । २ वि. छुड़ानेवाला, 'दुहसयविमोयणकाइ' (परह २, १—पत्र ६६) ।

विमोयणा वी [विमोचना] छुटकारा (सुप्र १, १३, २१) ।

विमोह सक [वि + मोहय्] मुग्ध करना, मोह उपजाना । विमोहेइ (महा) । सक. विमोहिन्ता, विमोहेत्ता (भग १०, ३—पत्र ४६८) ।

विमोह देखो विमोक्ख (आचा) ।

विमोह वि [विमोह] १ मोह-रहित (उत्त ५, २६) । २ पु विशेष मोह, धवराहट (सम्मत्त २२६) । ३ आचाराग सूत्र का एक अव्ययन (सम १५, ठा ६ टी—पत्र ४४५) ।

विमोहण न [विमोहन] १ मोह उपजाना । (सुर ६, ३८) । २ वि मोह उपजानेवाला (उप ७२८ टी) ।

विमोहिअ वि [विमोहित] मोह-प्राप्त (महा २३, ५२) ।

विम्व न [विम्व] गृह, घर (राज) ।

विम्वइअ वि [विस्मित] आश्चर्य-चकित, चमत्कृत (सुर १, १६०) ।

विम्वइअ अक [वि + रिम] चमत्कृत होना, विस्मित होना, आश्चर्यान्वित होना । क. विम्वइअणिज्ज, विम्वइअणीअ (हे १, २४८, अजि २०२) ।

विम्वइअ पु [विस्मय] आश्चर्य, चमत्कार (हे २, ७४, पड्, प्राप्र, उव, गउड, अवि १) ।

विम्वइअ सक [स्मृ] याद करना । विम्वइअ (हे ४, ७४) ।

विम्वइअ सक [वि + स्मृ] विस्मरण करना, याद न आना, भूल जाना । विम्वइअ (हे ४, ७५, प्राठ ६३, पड्) । वरु. विम्वइअ (था १६) ।

विम्वइअ न [विस्मरण] विस्मृति (पव ६, सबोध ४३, सूक्त ८०) ।

विम्वइअ वि [दे] १ मूर्च्छित, मूर्छा-प्राप्त । २ विस्मापित (से ६, ४१) ।

विम्वइअ वि [स्मरण] स्मरण करानेवाला, याद दिलानेवाला, 'वावरणवीरकहविम्वइअ' (कुमा) ।

विम्वइअ वि [विस्मृत] भुला हुआ, याद न किया हुआ (कुमा, पात्र) ।

विम्वइअ देखो विम्वइअ (उप ५३० टी) ।

विम्वइअ देखो विम्वइअ (अचु २२) ।

विम्वइअ वि [विस्मारित] भुलाया हुआ (कुमा, आ २८) ।

विम्वइअ (अप) देखो विम्वइअ (सण) ।

विम्वइअ सक [वि + स्मापय्] आश्चर्य-चकित करना । विम्वइअ (महा, निचू ११) । वरु. विम्वइअ (उत्त ३६, २६२) ।

विम्वइअ न [विस्मापन] आश्चर्य उपजाना, विस्मय-करण (अप) ।

विम्वइअ वी [विस्मापना] ऊपर देखो (निचू ११) ।

विम्वइअ वि [विस्मापक] विस्मय-जनक (सम्मत्त १७४) ।

विम्वइअ वि [विस्मापित] आश्चर्यान्वित किया हुआ (वर्मवि १४७) ।

विम्वइअ वि [विस्मित] विस्मय प्राप्त, चमत्कृत (था २८—पत्र १६०, उव) ।

विम्वइअ (अप) देखो विम्वइअ । विम्वइअ (सण) ।

विम्वइअ वि [विस्मेर] विस्मय पानेवाला, चमत्कृत होनेवाला (था १२, २७) ।

विम्वइअ देखो विम्वइअ ।

विम्वइअ अक [वि + वृत्] वरतना, होना । हेइ विम्वइअ (आचा २, २, २, ३) ।

विम्वइअ पु [व्यद, व्यद] आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७६) ।

विम्वइअ सक [भञ्ज] भांगना, तोडना । विम्वइअ (हे ४, १०६) ।

विम्वइअ अक [गुप्] व्याकुल होना । विम्वइअ (हे ८, १५०), विम्वइअ (कुमा) ।

विम्वइअ (अप) देखो वीर (सण) ।

विणमिअ वि [विनत] विशेष रूप से नत (भग, श्रौप, राया १, १ टी—पत्र ५) ।

विणमिअ वि [विनमित] नमाया हुमा (गउड) ।

विणय पुं [विनय] १ अश्रुत्यानः प्रणाम आदि भक्ति, शुश्रूषा, शिष्टता, नम्रता (आचा, ठा ४, ४ टी—पत्र २८३, कुमाः उवा, श्रौप, गउड, महा, प्रासू ८) । २ समय, चारित्र्य (सम ५१) । ३ नरकावास विशेष, एक नरक स्थान (देवेन्द्र २६) । ४ अपनयन, दूरीकरण । ५ शिक्षा, सीख । ६ अनुनय । ७ वि. विनय-युक्त, विनीत । ८ निश्रुत, शान्त । ९ क्षित, फँका हुआ । १० जितेन्द्रिय, समयी (हे १, २४५) । ११ पु शास्त्रानुसार प्रजा का पालन (गउड ६७) । १२ मत वि [चत्] विनय युक्त (उप ५ १६६) ।

विणय वि [विनत] १ विशेष रूप से नमा हुआ (श्रौप) । २ पुनः एक देव-विमान (सम ३७) ।

विणय° देखो विणया । °तणय पु [°तनय] गउड पक्षी (वजा १२२) । °सुअ पु [°सुत] वही अर्थ (पात्र) ।

विणयइत्तु देखो विणइत्तु (सुख २६, ४) ।

विणयधर पु [विनयन्धर] एक शेट का नाम (उप ७२८ टी) ।

विणयण न [विनयन] विनय-शिक्षा, शिक्षण, 'आचारदेसणाओ आयरिया, विणयणाहुव-ज्जाया' (विसे ३२००) ।

विणया स्त्री [विनता] गउड की माता का नाम (गउड) । °तणय पु [°तनय] गउड पक्षी (से १४, ६१, सुपा ३५४) ।

विणस देखो विणस । विणसइ (उर ७, ३, कुमा ८, २१) ।

विणसिर वि [विनशर] विनाश-शील, नरवर (दे १, ६०) ।

विणसस अक [वि + नश्] नष्ट होना, विच्छस्त होना । विणससइ, विणससए, विणससे (उव, महा, धर्मस ४०१) । भवि विणससिहिंति (महा) । वहु विणससमाण (उवा) । क. विणससम (धर्मस ४०२, ४०३) ।

विणरसर देता विणसिर (वि ३१५) ।

विणा अ [विना] सिवाय, विना (गउड, प्रासू १०, १५६, ६ १७) ।

विणामिद (शौ) देखो विणमिअ = विनमित (नाट—मृच्छ २१८) ।

विणायग पुं [विनायक] यक्ष, एक देव-जाति, 'तत्त्वेव आगमो सो विणायगो पुयणो नाम' (पउम ३५, २२) । २ गणपति, गणेश (सद्धि ७८ टी) । ३ गउड (पउम ७१, ६७) । °थ न [°रु] अक-विशेष, गउडाक (पउम ७१, ६७) ।

विणास देखो विणसस । विणासइ (भवि) ।

विणास सक [वि + नाशय] ध्वंस करना, नष्ट करना । विणासेइ (उव, महा) । भवि विणासिही, विणासेहामि (पि ५२७, ५२८) । कर्म, विणासिज्जइ (महा) । कवहु विणासिज्जत (महा) । क विणासियठव (सुपा १४५) ।

विणास पुं [विनाश] विध्वंस (उव, हे ४, ४२४) ।

विणासग वि [विनाशक] विनाश-कर्ता (इ १७) ।

विणासण न [विनाशन] १ विनाश, विध्वंस (भवि) । २ वि विनाश, कर्ता (पएह २, १—पत्र ६६, वस ३, ३८) ।

विणासिअ वि [विनाशित] विनाश-प्राप्त (पात्र, महा, भवि) ।

विणि° देखो विणी ।

विणिअसण न [विनिदर्शन] खास उदाहरण, विशेष दृष्टान्त (से १२, ६६) ।

विणिअंसण वि [विनिबसन्] बस्त्र-रहित, नगा (गा १२५) ।

विणिइत्तु देखो विणइत्तु (उत्त २६, ४) ।

विणिउत्त वि [विनियुक्त] कार्य में प्रवर्तित (उप ५ ७५) ।

विणिओग पु [विनियोग] १ उपयोग, ज्ञान (विसे २४३७) । २ कार्य में लगाना (पचा ७, ६) । ३ विनियम, वेनदेन (कुप्र २०६) ।

विणिओय सक [विनि + योजय] जोड़ना, लगाना । विणिओयइ (भवि) ।

विणिअत देखो विणी = विनिर + इ ।

विणिकुट्टिय वि [विनिद्धट्टिव] कूट कर वैठाय हुमा, 'यभविणिकुट्टियाहि पवराहि सालहणीहि' (सुपा १८८) ।

विणिकम देखो विणिमरम । विणिकमइ (गउड २७५, पि ४८१) ।

विणिकस सक [विनि + कृप्] खींच कर निकालना । सक, विणिकसस (सुप्र १, ५, १, २२) ।

विणिकखत वि [विनिष्कान्त] १ बाहर निकला हुआ । २ जिसने गृह-त्याग किया हो वह, सन्यस्त (उप १४७ टी, कुप्र ३६, महा) ।

विणिकरम अक [विनिस् + क्रम्] १ बाहर निकलना । २ सन्यास लेना । विणिकरमइ (गउड ८५१, ११८१) । तहु, विणिकखमिचा (भग) ।

विणिकरमण न [विनिष्क्रमण] १ बाहर निकलना । २ सन्यास लेना (पचा १८, २१) ।

विणिकखत्त वि [विनिक्षिप्त] फँका हुआ (नाट—मृच्छ ११६) ।

विणिकिण्ह सक [विनि + ग्रह] निग्रह करना, दंड देना । वहु विणिकिण्हत (उप ५ २३) ।

विणिकिण्ह सक [विनि + गृहय] गुप्त रखना, उकना । विणिकिण्हजा (आवा २, १, १०, २) ।

विणिकमण पु [विनिर्गम] नि सरण, बाहर निकलना (गउड) ।

विणिकगय वि [विनिर्गत] बाहर निकला हुआ, बाहर गया हुआ (से २, ५, महा भवि) ।

विणिकाय पु [विनिघान] १ मरण, मौत । २ ससार, भव-त्रमण (ठा १, १—पत्र २६१) ।

विणिकइ सक [विनिस् + वि] नियंत्र करना । विणिकइइ (सए) । सक विणिच्छिअ (सए) ।

विणिकइय पु [विनिग्रय] विषय, निज-परिज्ञान (पएह १, १—पत्र १०, ठा ३, ३, उर) ।

विणिकिअ वि [विनिश्चित] निश्चित, निर्णीत (भग, उवा, कणा, मुट २, २०३) ।

विरह पुन [दे] ? एकान्त, विजन (दे ७, ६१, णाया १, २—पत्र ७६, पुष्प ३४४), 'सामाए देवीए अतराणि य छिहाणि य विरहाणि य पडिजागरमाणीओ २ विहरति' (विपा १, ६—पत्र ८६) । २ कुसुम से रंगा हुआ कपडा (दे ७, ६१) ।

विरहाल न [त्रे] कुसुम से रंगा हुआ वस्त्र (दे ७, ६८) ।

विरहि नि [विरहिन्] वियोगी, विलुडा हुआ (कुमा) ।

विरहिअ वि [विरहित] विरह युक्त (भग, उव, हे ४, ३७७) ।

विरा अक [वि + ली] ? नष्ट होना । २ द्रवित होना, पिघलना । ३ अटकना, निवृत्त होना । विराद (हे ४, ५६) ।

विराइ वि [विरागिन्] विरागवाला, विरक्त, उदासीन । स्त्री 'णी' (नाट) ।

विराइ वि [विराजिन्] शोभनेवाला, चमकता (म २, २६) ।

विराइ वि [विराविन्] शब्द-युक्त, आवाज-वाला (से २, २६) ।

विराइअ देखो विराय = विलीन (से २, २६) ।

विराइअ नि [विराजित] सुशोभित (उवा, शोष, महा) ।

विराग पु [विराग] ? राग का भ्रम, बेराग्य, उदासीनता (सुख १३, उप ७२८ टो) । २ वि राग रहित, वीतराग (पञ्च १०८, शोष) ।

विराड पु [विराट] देश विशेष (उप ६४८ टो) । नगर न [नगर] नगर-विशेष (णाया १, १६—पत्र २०६) ।

विराव (भप) पु [विराव] एक राजस का नाम (पिग) ।

विराम पु [विराम] उपरम, निवृत्ति, प्रसन्न (पञ्च) ।

विरामा न [विरामण] विरत करना, निरसन, रिस्माना, 'पेरविरामणपञ्चवसाए' (परए २, १—पत्र १३१) ।

विराव मक [वि + राज्] शोभना, मनना । विराव (पाप) । रू विरायन, विरायना (रत्न, शोष, णाया १, १ टो—पत्र २, पुर २, ७६) ।

विराय वि [विलीन] ? विशील, विगलित, नष्ट (से ७, ६४; गउड, कुमा ६, ३८) । २ पिघला हुआ (पाप) ।

विराय देखो विराग (परह २, ५—पत्र १४६, कुमा, सुपा २०५, वज्जा ६, कुप्र १११) ।

विराल देखो विराल (णाया १, १—पत्र ६५, पि २४१) ।

विरालिआ स्त्री [विरालिका] ? पलाश-कन्द । २ पर्ववाला कन्द (वस ५, २, १८) । देखो विरालिआ ।

विराली स्त्री [विराली] ? बल्ली-विशेष (पव ४, आ २०, सबोध ४४) । २ चतुरिन्द्रिय जतु की एक जाति (उत ३६, १४८, सुख ३६, १४८) । देखो विराली ।

विराव पु [विराव] शब्द, आवाज (गउड) ।

विरावि वि [विराविन्] आवाज करनेवाला (गउड) ।

विराह सक [वि + राधय्] ? खरडन करना, भाँगना, तोडना । विराहति (उव) । बक विराहल, विराहंत (सुपा ३२८, उव) ।

विराहअ } वि [विराधक] खरडन करनेवाला, विराहग } तोडनेवाला, भजक (भग, णाया १, ११—पत्र १७१) ।

विराहणा स्त्री [विराधना] खरडन, भग (सम ८, णाया १, ११ टो—पत्र १७३, परह १, १—पत्र ६, शोष ७८८) ।

विराहिअ वि [विराधित] ? खरडित, भगन (भग) । २ अपराध, जिसका अपराध किया गया हो वह, 'अविराहियवेरिहि' (परह १, ३—पत्र ५३) । ३ पुं एक विद्याधर नरेश (पउम ७६, ७) ।

विरिअ वि [भग्न] भगा हुआ, तोडा हुआ (कुमा) ।

विरिअ देखो वीरिअ (सूअनि ६१, ६४, शोष) ।

विरिच सक [वि + भज्] विनाग ग्रहण करना, भाग लेना, बंट लेना, 'सयणो वि य से रोगं न विरिचइ, नेय नासेइ' (स १ ७) ।

विरिच पु [विरिच] म्हा, विघाता (पाप) ।

विरिचि पुं [विरिचि] ऊपर देखो (सुर १२, ७८) ।

विरिचिअ वि [दे] ? विमल, निर्मल । २ विरक्त, उदासीन (दे ७, ६३) ।

विरिचिर पुं [दे] ? अरव, घोडा । २ वि विरल (दे ७, ६३) ।

विरिचिरा स्त्री [दे] धारा, प्रवाह (दे ७, ६३) ।

विरिक्क वि [दे] पाटित, विदारित (दे ७, ६४) ।

विरिक्क वि [विरिक्क] जो खाली हुआ हो वह (पउम ४५, ३२, सुपा ४२२) ।

विरिक्क वि [विभक्त] ? बाँटा हुआ, 'जेण चित्तयराए सभा समभागेहि विरिक्का' (महा) । २ जिसने भाग बाँट लिया हो वह, अपना हिस्सा ले कर जो अलग हुआ हो वह, 'एगम्मि सरिणएवेसे दो भाउया वणिया, ते य परोप्पर विरिक्का' (शोष ४६४ टो) ।

विरिका स्त्री [दे] विन्दु, लव, लेश (सुख २, २७) ।

विरिचिर वि [दे] धारा से विरेचन करने वाला (पड्) ।

विरिज्जय वि [दे] अनुचर, अनुगत (दे ७, ६६) ।

विरिल्ल सक [वि + स्तृ] विस्तारना, पैलाना । विरिल्लइ (प्राक् ७६) ।

विरिअ (अप) देखो विवरीअ (पिग) ।

विरिह सक [प्रति + पालय्] पालन करना, रक्षण करना । विरीहइ (प्राक् ७५, चात्वा १५३) ।

विरु } अक [वि + रु] रोना, चिल्लाना । विरुअ } बक विरुयमाण (उप ३३६ टो) ।

विरुअ न [विरुअ] ध्वनि, पक्षी की आवाज, शब्द (गा ६४, से १, २३, नाट—मृच्छ १३६) ।

विरुअ वि [दे-विरुप] ? खराब, कुडौल, डुप रूपवाला, कुत्सित (दे ७, ६३, भवि) । २ विषड, प्रतिकूल (पड्) । देखो विरुअ ।

विरुट्ट पु [विरुट्ट] नरक-स्थान विशेष (वेवेन्द्र २८) ।

विणिञ्जवण न [विनिर्दपन] शान्ति, दाहो- पराम (गउड) ।	२ विनय-युक्त, नम्र, शिष्ट (डा ४, ४—पत्र २८५, सुपा ११६, उव) । ३ शिखित, 'महो विणोअविण्णो' (उव ६) ।	विण्णय देखो विणइय (डा १०—पत्र ५१६) ।
विणिस्सरिय वि [विनि सूत] बाहर निकला हुआ (सण) ।	विणोआ ली [चिनीता] श्रयोच्या नगरी (सम १५१, कम्म, पउम ३२, ५०, ती १) ।	विण्णय देखो विण्ण (विपा १, २—पत्र ३६, १, ८—पत्र ८४) ।
विणिस्सह वि [विनिस्सह] शान्त, यका हुया, 'कहपावि घणुपरिस्समविण्णस्सहो वीहे- यामु मज्जेइ' (सुपा ५६) ।	विणील वि [विनील] विशेष हरा रंग का (गउड) ।	विण्णव सक [वि + झपय] १ विनती करना, प्रार्थना करना । २ मासूम करना, विदित करना । ३ कहना । विण्णवइ, विण्णवेमि, विण्णवेमो (पि ५५३, ५५१) । मवि, विण्णविस्स (वणिम ४१) । वहु, विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहं देखो विणिहण ।	विणु (अप) देखो विणा (हे ४, ४२६, पड, हम्मोर २८, कुलक १२, भवि, कम्म २, ६, २६, २७, ३, ५, कुमा) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहट्टु देखो विणिहा ।	विणोअ वि [विनेय] शिखणोय, शिष्य, अन्तेवासी, चेला (साधं ७०, उप १०३१ टी) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहण सक [विनि + हण] मार डालना । विण्हणेअ, विण्हति (सुम १, ११, ३७; १, ७, १६) । कर्म विण्हम्मति (उत्त ३, ६) ।	विणोमाण देखो विणो = वि + नी ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहय वि [विनिहय] जो मार डाला गया हो, व्यापादित (महा) ।	विणोअ सक [वि + नोदय] १ खरिदत करना । २ दूर करना, हटाना । ३ खेल करना । ४ कुतूहल करना । विणोएइ, विणोयति (गउड), विणोदेमि (शो) (स्वप्न ५१) । भवि विणोदइस्सामो (शो) (पि ५२८) । वहु विणोदअत (शो) (नाट— उत्तर ६५) । कवक विणोदीअमाण (शो) (नाट—मालवि ४५) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहा सक [विनि + धा] १ व्यवस्था करना । २ स्थापन करना । सक, विणिहट्टु, विणिहाय, विणिहित्तु (वेइय २६८, सूअ १, ७, २१, वप) ।	विणोअ पु [विनोद] १ खेल, लोडा । २ कौतुक, कुतूहल (गउड, सिरि ५६, सुर ४, २१६, हे १, १४६) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहाय देखो विणिघाय (एगामा १, १४— पत्र १८६) ।	विणोअ वि [विनोदित] विनोद-युक्त किया हुमा (सुर ११, २३८, सण) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहिय वि [विनिहित] स्थापित (गा विणिहित्तु) ३६१, सुपा ६२) ।	विणोअय पु [विनोद] १ खेल, लोडा । २ कौतुक, कुतूहल (गउड, सिरि ५६, सुर ४, २१६, हे १, १४६) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणिहित्तु देखो विणिहा ।	विणोअय वि [विनोदित] विनोद-युक्त किया हुमा (सुर ११, २३८, सण) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणी अक [विनिर् + इ] बाहर निकलना । विणिति, विणिति (गा ६५४, पि ४६३) । वहु, विणित (गउड १३८) ।	विणोअय वि [विनोदित] विनोद-युक्त किया हुमा (सुर ११, २३८, सण) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणी सक [वि + नी] १ दूर करना, हटाना । २ विनय-ग्रहण करना । विणिति (एगामा १, १—पत्र २६, ३०), विणित्तमि, विणित्तव, विणिएज, विणोउ (एगामा १, १— पत्र २६, सुम १, १३, २१, पि ४६०, एगामा १, १—पत्र ३२) । भूका, विणएवु (सुम १, १२, ३) । भवि, विणोहिइ (पि ५२१) । वहु विणोमाण (एगामा १, १— पत्र ३३) । कवक विणित्तमाण (एगामा १, १—पत्र २२) । हेइ विणएवु (माचा १, ५, ६, ८, पि ५७०) ।	विणोअय वि [विनोदित] विनोद-युक्त किया हुमा (सुर ११, २३८, सण) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।
विणीअ वि [विनील] १ अपनोत, दूर किया हुमा, रटाया हुआ (एगामा १, १—पत्र ३३), 'वस्यन्तेसु विणोयतएइ' (उत्त २६, १३) ।	विणोअय वि [विनोदित] विनोद-युक्त किया हुमा (सुर ११, २३८, सण) ।	विण्णवत (काल) । सक विण्णविअ (नाट—मूच्छ २६४) । हेइ, विण्णविदु (शो) (अभि ५३) । क विण्णइदव (शो) (पि ५५१) ।

विलप्य पुं [विलात्मन्] एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) ।

विलभ सक [खेदय्] खिन्न करना, खेद उपजाना । विलभेइ (प्राक् ६७) ।

विलमा स्त्री [दे] ज्या, धनुष की डोरी (दे ७, ३४) ।

विलय पु [दे] सूर्य का अस्त होना (दे ७, ६३, पात्र) ।

विलय पु [विलय] १ विनाश (कुप्र ५१, मुपा १६७, ती ३) । २ तल्लीनता (ती ३) । ३ पु एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २६) ।

विलया स्त्री [चनिता] स्त्री, महिला, नारी (पात्र. हे २, १२८, पड्, कुमा, रभा, भवि) ।

विलय्य अक [वि + लप्] रोना, काँदना, चिल्लाना । विलवइ (पड्, महा) । वहु विलय्यत, विलय्यमाण (महा, णया १, १—पत्र ४७) ।

विलयण वि [विलपन] रोनेवाला, चिल्लाने-वाला । १ या स्त्री [०ता] विलाप, क्रन्दन (मौप) ।

विलयिज न [विलपित] विलाप, क्रन्दन (पात्र औप) ।

विलयिर वि [विलपितृ] विलाप करनेवाला (कुमा नण) ।

विलम्य अक [वि + लस्] १ मौज करना । २ चमकाना । विलमइ, विलसेगु (महा) । वहु विलसत (तप्, सुर १, २२८) ।

विलमण न [विलसन] १ विलास, मौज (उा पु १८१) । २ वि मौज करनेवाला (सुर १, २२१ डि) ।

विलसिय न [विलसित] १ चेष्टा-विशेष । २ भोग, चमक (महा) ।

विलसिर वि [विलसितृ] विलास, विलास करनेवाला (कुमा २०६, २५६, धर्मेवि १६, १७) ।

विलस्य न विरा, 'मयण य नणो वुण्णोपि ए वि विलसिमा' (नत् २७), 'ताणय १ विलसिमा उ उरुमि' (कुप्र १०५) ।

विलाल देखो विराल (पि २४१) ।

विलाय पु [विलाप] क्रन्दन, विलख-विलख या विकल होकर रोना परिदेवन (उव) ।

विलायिअ वि [विलापित] विलाप युक्त (वै ८६, भवि) ।

विलास पु [विलास] १ स्त्री का नेत्र-विकार । २ स्त्री की शृ गार-चेष्टा विशेष, अंग और क्रिया-सवन्वी स्त्री की चेष्टा-विशेष (परह २, ४—पत्र १३२, औप, गउड) । २ दीप्ति, चमक (कुमा, गउड) । ३ चेष्टा-विशेष, मौज (गउड) । ४ पुर न [०पुर] नगर-विशेष (मुपा ६२२) । ५ वई स्त्री [०वती] स्त्री, नारी, महिला (से १०, ७१, गउड) ।

विलासि वि [विलासिन्] १ मौजो, शौकीन (हास्य १३८, गउड) । २ चमकनेवाला । स्त्री, ०णी, 'चदविलासिणीओ चददसमललाडाओ' (औप) ।

विलासिअ वि [विलासिक, ०सित] विलास-युक्त (गा ४०५) ।

विलासिणी स्त्री [विसिनी] १ नारी, स्त्री । २ वेश्या (गा २६३, ८०३ अ, गउड, नाट—रत्ना ६, पि ३४६, ३८७) । देखो विलासि ।

विलिअ न [व्यलीक] १ कदप-सवन्वी अपराध, वह अपराध जो काम के आवेग के कारण किया जाय, गुनाह (कुमा, गा ५३) । २ अकार्य (गा ५३) । ३ अप्रिय, विप्रिय (गा ५३, पात्र) । ४ अमृत, असत्य । ५ प्रतारणा, ठगई । ६ गति-विपर्यय । ७ वि अपराधी । ८ अकार्य-कर्ता । ९ विप्रिय-कर्ता । १० झूठ बोलनेवाला (हे १, ४६, १०१) ।

विलिअ वि [व्रीडित] लजित, शरमिन्दा (पात्र पड्) ।

विलिअ न [दे व्रीडित] लजा, शरम (दे ७, ६५, सण) ।

विलिइअ वि [व्यलीकित] व्यलीक-युक्त, 'विलि (गलिइए विहु)' (भग १५—पत्र ६८१, राज) ।

विलिया सक [वि + लिङ्ग] आलिङ्गन करना, स्पर्श करना । विलिगेज (आचा २, ६, ३) ।

विलिजरा स्त्री [दे] घाना, भुने हुए जी (दे ७, ६९) ।

विलिप सक [वि + लिप्] लेप करना, लेपना, पोतना । विलिपइ (सण) । संहु. विलिपिऊण (सण) । हेहु. विलिपित्तए (कस) । प्रयो., वहु. विलिपावत (निचू १७) ।

विलिज्ज अक [वि + ली] १ नष्ट होना । २ पिघलना । विलिजइ, विलिज्जति, विलिज (हे ४, ५६, ४१८, भवि, अजक ५५, सवोष ५२, गच्छ २, २६) । वहु विलिज्जत, विलिज्ज-माण (पउम ६, २०, ३, २१, २२) ।

विलित देखो विलिअ = व्रीडित (उप २६६) ।

विलित्त वि [विलिम्] लिपा हुआ, जिसको विलेपन किया गया हो वह (सुर ३, ६२, १०, १७, भवि) ।

विलिन्त्रिणी स्त्री [दे] कोमल और निर्बल शरीरवाली स्त्री, नाजुक बदनवाली नारी (दे ७, ७०) ।

विलिह सक [वि + लिह्] १ रेखा करना । २ चित्र बनना । ३ खोदना । विलिहइ (भवि) । वहु विलिहमाण (पउम ७, १२०) । कवहु. विलिहिज्जमाण (कप्प) । हेहु विलिहिउ (कप्प) ।

विलिह सक [वि + लिह्] १ चाटना । २ चुम्बन करना । विलिहटु (कप्प) । वहु. विलिहत (गच्छ १, १७, भत् १४२) ।

विलिहण न [विलेखन] रेखा-करण (तडु ५०) ।

विलिहिअ वि [विलिखित] चित्रित (सुर १२, २०) ।

विलीअ देखो विलिअ = व्रीडित, 'सोवि-वसो विलीओ' (कुप्र १३५) ।

विलीअ देखो विलिअ = व्यलीक, 'मज्जक विलीय नरवइसस परिवसइ किपि चित्ते' (मुपा ३००) ।

विलीइर वि [विलोत्] द्रवण-शील, पिघलने-वाला (कुमा) ।

विलीण वि [विलीण] १ पिघला हुआ, द्रवी-भूत । २ विनष्ट, 'सोवि पुह भाणजलणे मयणो मयण विअ विलीणो' (धण २५, पात्र. महा, भवि) । ३ जुगुप्सित (परह १, १—पत्र १४) ।

विच्ची° देखो विच्त्त = वृत्त । °कल्प वि [°कल्प] सिद्धप्राय, पूर्ण-प्राय (तदु ७) ।

विच्ची° देखो विच्त्ति = वृत्ति । °सखेव पुं [°सक्षेप] वाह्य तप का एक भेद—खाने, पीने और भोगने की चीजों को कम करना (सम ११) । °सखेवण न [°सक्षेपण] वही अर्थ, विच्चीसखेवण रसच्चाओ° (नव २८, पडि) ।

विच्चेस वि [विच्चेरा] धनी, श्रीमत (उव ७२८ टी) ।

वित्थ पुन [विस्त] सुवणं, सोना (से १, १) ।

वित्थक्क अक [वि + स्था] १ स्थिर होना । २ विलम्ब करना । ३ विरोध करना । वक्क, वित्थक्कत्त (से ३, ४, १३, ७०, ७४) ।

वित्थक्क देखो वित्थक्क (स ६३४ टि) ।

वित्थड [वि [विस्तृत] १ विस्तार-युक्त, वित्थय } विशाल (भग, भौप, पाण, वसु, भवि, गा ४०७) । २ सबद्ध, घटित (से १, १) ।

वित्थर अक [वि + रत्त] १ फैलना । २ बढ़ना । वित्थरड (प्राक ७६, स २०१, ६८४, सिरि ६२७, मन २५) । वक्क वित्थरत्त (से ३, ३१, स ६८६) । हेक्क वित्थरिड (पि ५०५) ।

वित्थर पुन [विस्तर] १ विस्तार, प्रपच (गउड) । २ शब्द-समूह (गउड ८६) ।

वित्थर देखो वित्थरड, 'तत्थ वित्थरा कज्ज-पुरा' (से ४, ४६), 'वित्थर च तत्थट्ट' (वज्जा १०४) ।

वित्थरण वि [विस्तरण] १ फैलानेवाला । २ बुद्धिजरेक (कुमा) ।

वित्थरिअ देखो वित्थरड (सुर ३, ५४, सुपा ३६८, पि ५०५, भवि, सण) ।

वित्थार सक [वि + स्तारय] फैलाना । वित्थारड (भवि, वित्थारोदि (शौ) (नाट—शकु १०६) ।

वित्थार पु [विस्तार] फैलाव, प्रपच (गउड, हे ४, ३६५, नाट—शकु ६) । °रुडि वि [°रुचि] सम्यक्त्व-विरोध वाला, सब पदार्थों को विस्तार से जानने की चाहवाला सम्यक्त्वो (पय १४६) ।

वित्थारइत्तअ (शौ) वि [विस्तारयित्त] फैलानेवाला (अभि २८, पि ६००) ।

वित्थारग वि [विस्तारक] फैलानेवाला (रभा) ।

वित्थारण न [विस्तारण] फैलाव, 'सीसमइ-वित्थारणमित्तथोय कम्मो समुल्लावो' (सम्म १२२, सिरि १२०७) ।

वित्थारिय वि [विस्तारित] फैलाया हुआ (सण, दे) ।

वित्थियण } वि [विस्तीर्ण] विस्तार-युक्त, वित्थियण } विशाल (नाट—मृच्छ ६४, पाण, भवि) ।

वित्थिय देखो वित्थड (स ६६७; गा ४०७ अ) ।

वित्थिर न [दे] विस्तार, फैलाव (षड्) ।

वित्थुय देखो वित्थड (स ६१०) ।

वित्थक्क वि [विप्रित] जो विरोध में खड़ा हुआ हो; विरोधी बना हुआ (स ४६७, ६३४) ।

विद् देखो विअ = विद् । वक्क विदत्त (उप २८० टी) । सक्क विदिच्चा, विदिच्चाण (सुअ १, ६, २८, पि ५८३) ।

विदड पुं [विदण्ड] कक्षा तक लम्बी लट्टी (पव ८१) ।

विदसग देखो विदसय (पएह १, १ टी—पत्र १५) ।

विदसण न [विदर्शन] अन्वकार-स्थित वस्तु का प्रकाशन (पएह १, १—पत्र ८) । देखो विदरिसण ।

विदसय वि [विदशक] श्येन आदि हिंसक पक्षी (उत्त १६, ६५, सुख १६, ६५) ।

विदड्ड } वि [विदग्ध] १ परिउत्त, विच-विदड्ड } क्षण (सक्ति ८) । २ विरोध दण्य (पव १२५) । ३ अर्थों का एक भेद (राज) । देखो विदड्ड ।

विदड्ढ पुली [विदर्भ] १ देश-विरोध, 'इथो य विदड्ढदेशमंडण कुडिणं नयर' (कुप्र ४८, गा ८६) । २ भगवान् सुपारवनाथ के गणपतर—मुख्य शिष्य का नाम (सम १५२) । ३ पुत्रो विदर्भ देश की प्राचीन राजधानी, कुण्डिनपुर, जो आजकल 'नागपुर' के नाम से प्रसिद्ध है, 'दूरे विदड्ढा' (कुप्र ७०) ।

विदरिसण वि [विदर्शन] जिसके देखने से भय उत्पन्न हो वह वस्तु, विरूप आकारवाली विभीषिका आदि, 'एस ए तए विदरिसणो दिट्ठे' (उवा) । देखो विदसण ।

विदळ न [विदळ] वंश, वास (सुख १०, १, ठा ४, ४—पत्र २७१) ।

विदळ न [विदळ] १ चना आदि वह शुष्क धान्य जिसके दो टुकड़े समान होते हैं,

'जम्मि हु पीलिज्जते नेहो न

हु होइ विति त विदळ ।

विदलोविहु उप्पन्न नेहपुय

होइ नो विदळ' (सन्नोष ४४) ।

२ वि जिसके दो टुकड़े किए गए हो वह (सुअनि ७१) ।

विदळिड् (शौ) वि [विदळित्त] क्षणिक, क्षणित (नाट—वेणी २६) ।

विदाअ देखो विदाय = विदुत्त (से १३, २५) ।

विदारग } वि [विदारक] विदारण कर्ता } विदारय } 'कम्मरयविदारगाइ' (पएह २, १—पत्र ६६, राज) ।

विदारण न [विदारण] विविध प्रकार से चोरना, फाडना (पएह १, १—पत्र १५) ।

विदिअ देखो विड्ढअ (अभि १२३, पउम ३६, ६८) ।

विदिण देखो विड्ढण = वितीण (विपा १, २—पत्र २२) ।

विदिण वि [विदीर्ण] फाडा हुआ; चीरा हुआ (नाट—मृच्छ २५५) ।

विदिच्चा } देखो विद = विद् ।

विदिच्चाण }

विदिण देखो विदिण = वितीण (विपा १, २ टी—पत्र २२, सुर ५, १८७) ।

विदिस (अप) वी [विदिशा] एक नगरी का नाम (भवि) ।

विदिसा } वी [विदिश] १ विदिशा, विदिस्ती } उपदिशा, कोण (प्राचा, पि ४१३, पएण १—२६) । २ विपरीत दिशा, अक्षयम (आना) ।

विदु देखो विउ (पत्ता १६, ७) ।

विदुग्गुआ देखो विउच्छा (राज) ।

विदुग्ग न [विदुर्ग] समुदाय (अग १, ८) ।

विद्युष्ण वि [विप्रकीर्ण] विस्तरा हुमा (पउम ७८, २६, से ५, ५२, १३, ८६)।

विद्युष्ण वि [विद्युष्ण] विशेष वाका, टेढा (स २५१)।

विद्युष्ण वि [विपश्चिका] वायु-विशेष, वीणा (पाप)।

विद्युष्ण वि [विपक्व] १ अच्यो तरह पूर्ण किया हुआ। २ प्रकर्ष को प्राप्त, अत्यन्त पका हुआ। ३ उदय मे प्रागत, पलाभिसुख, 'विपक्वतवयमचेराणं देवाण भवन्त वदमाणे' (ठा ५, २—पत्र ३२१)।

विद्युष्ण पु [विपक्ष] १ दुरमन, रियु, विरोधी, 'विवस्वदेवीर्हि' (गउड, स ५६४, अच्यु ३१)। २ न्याय शास्त्र-प्रामिद विच्छेद पक्ष, यह वस्तु जहाँ साध्य आदि का अभाव हो (दसनि १—गाथा १४२)। ३ विपरीत धर्म (अणु)। ४ वैद्यम्यं, विसदृशता (ठा १ टी—पत्र १३)।

विद्युष्ण स्त्री [विपक्षा] कहने की इच्छा (पच १, १० मात ३१, दसनि १, ७१)।

विद्युष्ण वि [विप्यात्र] व्याघ्र के चमड़े से मरा हुआ, व्याघ्र-चर्म-युक्त (आचा २, ५, १, ५)।

विद्युष्ण पु [विपर्यास] विपर्यय, विपरीतता, व्यत्यास, उलटा (उत्त ३०, ४, सुख ३०, ६, शोप २६८)।

विद्युष्ण स्त्री [विपत्सा] १ एक महानदी (ठा १०—पत्र ६७७)। २ वस्त्र-रहित स्त्री (राज)।

विद्युष्ण प्रक [वि + पद्] मरना, नष्ट होना। विपत्सा, विपत्सामि (म ११६, पच १४, सुग २, ४५)। मरि, विपत्सिही (कुप्र १८६)। यह विपत्सत (नाट—रत्ना ७७)।

विद्युष्ण उक्त [वि + प्रज्य] परित्याग रस्ता। विपत्स (ज)। वट विपत्सयत, विपत्समाग (उक्त धर्मस १०३२)। क. विपत्सगिज, विपत्सगोअ (उप ५६७ टी, मरि १८३)।

विद्युष्ण वि [विपत्] १ ररित, वरित, मरि, विपत्स (सुभा २७)। २ विपत्स मरि (वि १०६)।

विद्युष्ण वि [विपर्जक] वर्जन करनेवाला (सुभ २, ६, ५)।

विद्युष्ण न [विपर्जन] परित्याग (रत्न २२)।

विद्युष्णया स्त्री [विपर्जना] परित्याग, विपत्सणा परिहार, वर्जन (सम ४४, उत्त ३२, २, दसत्त २, ५)।

विद्युष्णस्थ वि [विपर्यस्त] विपरीत, उलटा (पचा ११, ३७, कम्म १, ५१)।

विद्युष्णय पु [विपर्यय] विपर्यास, व्यत्यास, वैपरीत्य (पाप, उप १४२ टी, पव १३३, पचा ६, ३०, कम्म १, ५५)।

विद्युष्णस पु [विपर्यास] १ विपर्यय, व्यत्यय (पाप, पचा ८, ११)। २ भ्रम, मिथ्याज्ञान (सुर ६, १५४)।

विद्युष्णि वि [विपजित] रहित, वजित, परित्यक्त (उव, द ३६, सुर ३, १५५, रंभा, भवि)।

विद्युष्ण अक [वि + वृत्] वरतना, रहना। विपट्ट (हे ४, ११८)। वक्क. विपट्टमाण (कुमा ६, ८०, रमा)।

विद्युष्णि वि [विपत्तित] गिरा हुआ (पउम १६, २२, भग ७, ६ टी—पत्र ३१८)।

विद्युष्ण अक [वि + वृध्] बढ़ना। वक्क. विपट्टमाण (आया १, १० टी—पत्र १७१)।

विद्युष्ण वि [विपर्धन] बढ़ानेवाला, 'मयविपट्टण' (उत्त १६, ७)। स्त्री 'णी' (उत्त १६, २)। देखो विपट्टण।

विद्युष्णि स्त्री [विपट्टि] बढ़ाव, वृद्धि (पचा १८, १३)।

विद्युष्णि अ वि [विपट्ट] बढ़ा हुआ (नाट—पिंग)।

विद्युष्णि पुत्री [विपणि] १ बाजार (सुपा ५३०)। २ हाट, दुकान, विपणो सह भावणो हट्टं (पाप)।

विद्युष्णोय वि [व्यपनीत] दूर किया हुआ, हटाया हुआ (कण)।

विद्युष्ण दोनो विपत्त = विपत्त (उत्त २०, ६४, गा ५५० अ)।

विद्युष्ण वि [विपर्ण] १ कुरूप, कुडौल (से ५, ४७, दे ६७६)। २ फीका, निस्तेज, म्लान (आया १, १—पत्र २८, से ८, ८७)।

विद्युष्ण वि [द्विपर्ण] १ दो पत्रवाला। २ पु बुध, पेढ (राज)।

विद्युष्ण पुं [विपर्त्त] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०)।

विद्युष्णि स्त्री [विपत्ति] १ विनाश (आया १, ६—पत्र १५७, विपा १, २—पत्र ३२, सुपा २३५, उव)। २ मरण, मौत (सुर २, ५१, स ११६)। ३ कार्य की असिद्धि (सुपा २३५, उव, वृह १)। ४ आपदा, कष्ट (सुपा २३५)।

विद्युष्णि अ वि [विपर्त्तित] फिराया हुआ, घुमाया हुआ (से ६, ८०)।

विद्युष्ण पुं [विपत्त] एक महाग्रह (सुज्ज २०)।

विद्युष्णि स्त्री [विपृति] १ विवरण, टीका। २ विस्तार (संक्षि ६)।

विद्युष्ण न [विपर्धन] वृद्धि, बढ़ाव (कण)। देखो विपट्टण।

विद्युष्ण स्त्री [विपर्धना] वृद्धि, बढ़ाव (उप ६७५)।

विद्युष्ण पु [विपर्धि] देव-विशेष (अणु १४५)।

विद्युष्ण देखो विपत्त = विपर्ण (सुपा ३१६)।

विपत्त वि [विपत्त] १ नाश-प्राप्त, विपट्ट (आया १, ६—पत्र १५७, स ३४५, सुपा ५०६)। २ मृत, मरा हुआ (पउम ४४, १०, उत्त १०, ४४, स ७५६, सूअनि १६२, धर्मवि १४४)।

विपत्त अक [वि + वद्] झगडा करना, विवाद करना। वक्क. विपत्त (सुपा ५४६, सम्मत्त २१५)।

विपत्त वि [दे] विस्तीर्ण (पद्)।

विपत्त स्त्री [विपद्] कष्ट, दुःख (उप ७२८ टी)।

विपत्त सक [वि + वृ] १ बाल सँवारना। २ विस्तारना। ३ व्याख्या करना। विपत्त (भवि), विपत्त (स ७१७)। वक्क. विपत्त विवरन्ती' (कुप्र २८५)।

विद्वसण न [विध्वसण] विनाश (एग्या १, १—पत्र ४८, परह १, ३—पत्र ५५, सूत्र १, २, २, १०, चेदय ६६४, उप पृ १८७)।

विद्वसणया वी [विध्वसना] विनाश (भग)।
विद्वसित वि [विध्वसित] विनाशित (चंड ३, ५)।

विद्वसिय } वि [विध्वसत] विनष्ट (पउम
विद्वस्य } ८, २३७, १६, ३०, पव
१५५)।

विद्वि वी [वृद्धि] १ वढाव, बढती (उप ७२८ टी, सुर ४, ११५)। २ समृद्धि (ठा १०—पत्र ५२५, विसे ३४०८)। ३ अश्रुदय। ४ सपत्ति। ५ अहिंसा (परह २, १—पत्र ६६)। ६ कलान्तर, सूद (विपा १, १—पत्र ११)। ७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का विकार (विसे ३४८२)। ८ श्रोषधि-विशेष (राज)।

विद्वधूण देखो विद्व = व्यध्।

विधम्म देखो विहम्म (राज)।

विधम्मिय वि [विधर्मित] तिरस्कृत (विसे २३४६)।

विधवा देखो विहवा (निन्न ८)।

विधा अ [वृथा] मुधा, निरर्थक, व्यर्थ (धर्मस ४११)।

विधाण देखो विहाण = विधान (बृह १)।

विधाय देखो विहाय = विधातु (राज)।

विवार सक [वि + धारय्] निवारण करना। सक विधारेउ (पिंड १०२)।

विधि (शौ) देखो विहि (हे ४, २८२, ३०२)।

विधुर वि [विधुर] १ व्याकुल, विह्वल, 'नहि विधुरसहावा हुंति दुत्येवि धीरा' (कुप्र ५४)। २ विपम, असमान (धर्मस १२२३, १२२४)। देखो विधुर।

विधुव (शौ) देखो विहुण = वि + धू। विधुवेदि (पि ५०३)।

विधूण देखो विहुण = वि + धू। सक विधू-णिन्ता (सूत्र २, ४, १०)।

विधूर्म पु [विधूर्म] अग्नि, वडि (सूत्र १, ५, २, ८, वसु)।

विधूय वि [विधूत] क्षुण, सम्यक् स्पृष्ट, 'विधूयकर्ण्य' (आचा १, ३, ३, ३, १, ६, ३, १)। देखो विहूअ।

विनड देखो विणड। विनडइ (भवि), 'अइ हिअअ पसिअ विरमसु दुल्लहपेण्णेण कि नु विनडेसि' (अकिम ५८)। कवक विनडिज्जत, विनडिज्जमाण (मुपा ६५५, १३४)।

विनडण न [विनटन] १ व्याकुल करना। २ विडम्बना (मुपा २०८)।

विनडिअ वि [विनटित] १ व्याकुल बना हुमा। २ विडम्बित, 'तएहाखुहाविनडिओ फलजलरहियम्मि सेलम्मि' (सम्मत १५६, मुपा २६०)।

विनमि पु [विनमि] भगवान् अथभदेव का एक पौत्र (वण १४)।

विनास देखो विणास = वि + नाशय्। विना-सए (महा)।

विनिवम्मा सक [विनि + व्थ्यै] देखना। विनिवम्माए (वस ५, १, १५)।

विनिवद्ध वि [विनिवद्ध] सबद, बँधा हुमा (महा)।

विनिमय पुं [विनिमय] व्यत्यय, 'इअ सव्व-भासविनिमयपरिहि' (कुमा)।

विनियट्ट देखो विणिणवट्ट। वक विनियट्ट-माण (आचा १, ५, ४, ३)।

विनियट्टण न [विनिवत्तन] निवृत्ति, विराम (आचा)।

विनिरय वि [विनिरत] लीन, प्राप्तक (कुप्र ६६)।

विनिहन्न सक [विनि + हन्] मार डालना, विनाश करना। विनिहन्निजा (उत्त २, १७)।

विनिहाय देखो विणिघाय (विपा १, २—पत्र ३१)।

विनीय देखो विणीअ (कस)।

विन्नत्त देखो विण्णत्त (काल)।

विन्नत्ति देखो विण्णत्ति (द ४७, कुमा)।

विन्नप्प देखो चिन्नव।

विन्नव देखो विण्णव। विन्नवइ, विन्नवेइ (पउम ३६, ११४, महा), विन्नवेजा (कप्प)।

वक, विन्नवेमाण (कप्प)। सक, विन्नविड, विन्नविच्चा (मुपा ३२३, पि ५८२)। क विन्नप्प, विन्नवणीय, विन्नविणव्य (पउम

४६, ४६, मोह ८२, सुपा १६२, २१६, ३२१)।

विन्नवण न [विज्ञापन] निवेदन, विज्ञापन (मुपा २६७)।

विन्नवणा वी [विज्ञापना] १ प्रार्थना, विनती (सूत्र १, ३, ४, १०)। २ महिला, नारी (सूत्र १, २, ३, २)। देखो विण्णवणा।

विन्नविय वि [विज्ञापित] निवेदित (महा)।
विन्ना देखो विण्णा = वि + ज्ञा। क विन्नेय (भग, उप ३३६ टी)।

विन्ना देखो विन्ना। 'यड न [तट] एक नगर का नाम (उप पृ ११२)।

विन्नाउ वि [विज्ञावृ] जाननेवाला (आचा)।

विन्नाण न [विज्ञान] १ सदबोध, ज्ञान (भग, आचा)। २ कला, शिल्प, 'त नत्थि किपि विन्नाए जेण धरिज्ज काया' (वे ७), 'कुमुम-विन्नाए' (कुमा, प्रासू ४३, ११२)। ३ मेधा, मति, बुद्धि, 'मेहा मई मणीसा विन्नाए वी चिई बुद्धी' (पाप्र)।

विन्नाणिय } देखो विण्णाय (उप १५० टी,
विन्नाय } सुर २, १३१, पि १०६,
पाप्र)।

विन्नाविय देखो विन्नविय (मुपा १४४)।

विन्नास पु [विन्नास] १ रचना, विचिन्ति, 'विन्नासो विचिन्ती' (पाप्र), 'वयणविन्नासो' (स ३०१, सुपा १७, २६६, महा)। २ स्थापना (भवि)।

विन्नासण न [विन्नासन] सस्थापन (स ३१८)।

विन्नासिअ वि [विन्नासित] सस्थापित (स ५६०)।

विन्नासिअ (अप) देखो विणासिअ (हे ६, ४१८)।

विन्नु देखो विण्णु (आचा), 'एगा विदू' (ठा १—पत्र १६)।

विन्नेय देखो विन्ना = वि + ज्ञा।

विन्हु पु [विण्णु] एक जन मुनि, जो मार्च-जेहिल के शिष्य थे (कप्प)। देखो विण्णु। 'पअ न [पद] आकाय (सपु १५०)। 'पदी वी [पदी] गंगा नदी (सपु १५०)।

४ न एकान्त, विजन, 'किन्तु विविक्तमाइसउ तायं' (स ७१३) ।

विविक्त वि [विविक्त] १ विवेक-युक्त । २ स्मृत, गणनीय (स ५) ।

विविदिअ वि [विविदित] विशेष रूप से ज्ञात (पण्ह २, १—पत्र ६६) ।

विविदिसा देखो विविइसा (पत्रा ३, २७) ।

विविद्वि पु [विवृद्धि] उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वा ग्रहघाता देव (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

विविह वि [विविध] अनेक प्रकार का, बहुविध, भाति भाति का (आचा. राय उव, महा) ।

विवुअ वि [विवृत] १ विस्तृत । २ व्याख्यात (सक्ति ४) ।

विवुअअ अक [वि + बुअ] जागना । विवुअअदि (शो) (प्राप्त) ।

विवुइडि देखो विवइडि (शोधमा १३६, स १३५) ।

विवुअ देखो विवुअ (प्राक् ८, १२) ।

विवुदि देखो विवदि (प्राक् १२) ।

विवुह देखो विवुह (सण) ।

विवेअ देखो विवेग (कुमा, महा ५२, ७७) ।
*नु वि [वि] विवेक ज्ञाता (पउम ५३, ३८) ।

विवेअ पु [विवेप] विशेष कंप (सुपा १४) ।

विवेइ वि [विवेदिन्] विवेकवाला (सुपा १८८, कुमा, सण) ।

विवेग पु [विवेक] १ परित्याग (सूत्र १, २, १, ८, ठा २, ३, शौष, प्राचानि ३०३) ।
२ शीत-शीत वस्तु लक्ष्मा का निष्पन्न, विनिश्चय (शौष कुमा) । ३ प्रायश्चित्त (आचा १, ५, ८, ८) । ४ सुपरण (शौष) ।

विवेगि देगो विवेइ (सुपा २६३, सुप्र ४७) ।

विवेच अक [वि + वेच] विवेचन करना, शीत-शीत शिष्य करना, विवेक करना । तम विवेचिअ (धर्मस १३१०) ।

हेह विवेचिअ (पउउ १३११) ।

विवेगि न [विवेगि] विवेक, शिष्य (विसे १६२२) ।

विवेगि पु [वि] विवेक तोनाएक, वस्तुन पागान, विवेकेअ उरगपुअ (स ५७१) ।

विवोळिअ वि [दे] व्यतिक्रान्त, गुजरा हुआ, 'कहकहवि विवोलिया मे रयणी' (स ५०६) ।

विवोह देखो विवोह (भवि) ।

विव्व सक [वि + अय] व्यय करना, खर्च करना, 'चित्तमणिप्यभावा सपजइ तस्स दक्खिमइपउर । त विव्वइ जिणभवणे' (सुपा ३८२) । कृ 'विव्वेयव्वो' (सुपा ४२४, ५८६) । देखो विव्व = वि = अय ।

विव्वाय वि [दे] १ अवलोकित । २ विश्रान्त (दे ७, ८६) ।

विव्वोअ देखो विव्वोअ (कुमा) ।

विव्वोयण [दे] देखो विव्वोयण (कप्प) ।

विस सक [विश] प्रवेश करना । विसइ, विसति (वज्जा २६, सण, गउड) । वक विसत (गउड) । सक विसिउण (गउड) । विस सक [वि + श] १ हिंसा करना । २ नष्ट करना । कवक विसिज्जामाण, विसीरत (विसे ३४३७, अन्तु ७४) ।

विस पुन [विप] १ जहर, गरल, हलाहल, 'भक्ति नद्धो दुहावि विमोहविसो' (सम्मत्त २२६, उवा, गउड, प्राप् १२०, कुमा) । २ पानी, जल (से ८, ६३) । *नदि पु [नन्दिन्] प्रथम बलदेव का पूर्वभवीय नाम (सम १५३) । *त्र [त्र] विप-मिश्रित अन्न (उप ६४८ टी) । *मइअ, *मय वि [मय] विप का बना हुआ (हे १, ५०, पइ) । *व वि [वत्] १ विपवाला, विप-युक्त । २ पु सर्प, सर्प (से ७, ६७) । *हर पु [वर] साप, सर्प (से २, २५, सुर १, २४६, महा) । *हरवइ पु [धरपति] शेष नाग (से ६, ७) । *हरिदि पु [धरेन्द्र] शेष नाग (गउड) । *हारिणी वी [हारिणी] पनीहारी, पानी भरनेवाली वी (हे ४, ८३६) ।

विस देखो विस (गा ६५२, गउड) ।

विस पु [वृप] १ वैल, सडि, वृषभ (सुर १, २८८, सुपा ३६३, ५६७, सुप ८, १३) । २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि (सुपा १०८, विचार १०७) । ३ मूषक, चूहा (दे ७, ६१, पइ) । ४ धर्म । ५ बल-युक्त । ६ अयन नामक शौषय । ७ मुख्य विशेष (सुपा ३६३) ।

८ काम, कन्दर्प । ९ शुक युक्त, वीथ-युक्त । १० शुकवाला कोई भी जानवर (सुपा ५६७) ।

विसद नि [विषयिन्] निषयनात्ता, निषय-युक्त (विसे २७६०) ।

विसंक वि [विशङ्क] शका-रहित, नि शक, (उप १३६ टी) ।

विसखल वि [विशुद्ध] स्वच्छन्द, स्वैरी, निरकुश, उदत (पाम, स १८०, से ५, ६८) ।

विसखल सक [विशुद्धलय] निरकुश करना, अव्यवस्थित कर डालना । सक-विसखलेउण (सुख २, १५) ।

विसघट्टिय वि [विसंघट्टित] वियुक्त, विघटित (कुप्र ६) ।

विसंघड अक [विस + घट] अलग होना, जुदा होना । वक. विसघडत (गा ११५) ।

विसघडिय वि [विसघटित] वियुक्त, जो जुदा हुआ हो वह (गाया १, ८—१४१, महा) ।

विसघाइय वि [विसघातित] संहत किया हुआ (अणु १७६) ।

विसघाय सक [विस + घाय] सहत करना । कर्म. विसघाइजइ (अणु १७६) ।

विसजुत्त वि [विसयुक्त] वियुक्त, जो अलग हुआ हो (सम्म २२, सूअनि १२१ टी) ।

विसजोअ पु [विस + जोय] वियुक्त करना, अलग करना । विसजोएइ (भग) ।

विसजोअ पु [विसयोग] वियोग, विघटन, विसजोग } पृथग्भाव. जुवाई (कम्म ५, ८२, पच ३, ५४) ।

विसठुल वि [विसस्थुल] १ विह्वल, व्याकुल (पाम, से १४, ४१, हे २, ३२, ४, ४३६, मोह २२, धम्मो ५) । २ अव्यवस्थित (गा १४६, कुप्र ४१७, दे १, ३४) ।

विसतव पु [द्विपन्तप] शत्रु को तपानेवाला, दुश्मन को हैरान करनेवाला (हे १, १७७) ।

विसथुल देखो विसठुल (पउम ८, २००, स ५२१) ।

विसथुलिय वि [विसस्थुलित] व्याकुल बना हुआ (सण) ।

विष्परिस पु [विष्कर्ष] दूरी, आसन्नता का श्रभाव, 'दिसाइविष्परिसा' (धर्मस १२१७)।

विष्पगाल सक [विष्पगाल, विष्प + गालय] नाश करना। विष्पगालइ (हे ४, ३१, पि ५५३)।

विष्पगालिअ वि [नाशित, विष्पगालित] नाशित (कुमा)।

विष्पगिद्ध वि [विष्पगिद्ध] १ दूरवर्ती, दूरी पर स्थित (स २२६)। २ दीर्घ, लम्बा, 'एणइ-विष्पगिद्धोहं अट्ठाणोहि' (एणाया १, १५)।

विष्पचय सक [विष्प + त्यज्] छोड़ना, त्याग करना। कृ. विष्पचइयव्व (तदु ३५)।

विष्पच्चय पु [विष्पत्त्यय] १ सवेह, संशय (उत्त २३, २४)। २ वि प्रत्यय-रहित, अविश्वसनीय (उव)।

विष्पजड वि [विष्पहीण] परित्यक्त (एणाया १, २—पत्र ८४, पत्रा १४, ६, पव १२३)।

विष्पजह सक [विष्प + हा] परित्याग करना, छोड़ देना। विष्पजहइ, विष्पजहति, विष्पजहे (कस, उवा, सुम २, १, ३८, उत्त ८, ४)। भवि. विष्पजहिस्सामो (पि ५३०)। वक्र. विष्पजहमाण (जा २, २—पत्र ५६, पि ५००)। सक्र. विष्पजहिन्ता, विष्पजहाय (उत्त २६, ७३, भाग)। कृ. विष्पजहणिज्ज, विष्पजहियव्व (एणाया १, १—पत्र ४८, पि ५७१, एणाया १, १८—पत्र २४१)।

विष्पजह न [विष्पहाण] परित्याग। १ सेणिया खी [० अणिआ] वारहवें जैन अग-ग्रन्थ का एक परिकर्म—अश-विशेष (सम १२६)।

विष्पजहणा } खी [विष्पहाणि] प्रकृत
विष्पजहणा } व्याम, परित्याग (उत्त २६, ७३, औप, विसे ३०८६, परण ३६—पत्र ८४७)।

विष्पजहिय वि [विष्पहीण] परित्यक्त (पि ५६५)।

विष्पजोग देखो विष्पओअ (चड)।

विष्पडिअ सक [विष्परि + ड] विपरीत होना, उलटा होना। विष्पडिअइ (सुम १, १२, १०)।

विष्पडिघाय पु [विष्प्रतिघात] प्रतिबन्ध, अटकाव (एणाया १, १६—पत्र २४५)।

विष्पडिपह पु [विष्प्रतिपथ] विपरीत मार्ग (उप १०३१ टी)।

विष्पडिवण देखो विष्पडिवन्न (पव ७३ टी)।

विष्पडिवत्ति खी [विष्प्रतिपत्ति] १ विरोध (विसे २४८०)। २ प्रतिज्ञा-भंग (उप ५१६)।

विष्पडिवन्न वि [विष्प्रतिपन्न] १ जिसने विशेष रूप से स्वीकार किया हो वह, 'विच्छ-त्पज्जेहिं परिवड्ढमाणोहिं २ मिच्छत्तं विष्पडिवन्ने जाए जाए यावि होत्था' (एणाया १, १३—पत्र १७८)। २ विरोध-प्राप्त, विरोधी बना हुआ (आचा १, ८, १, ३, सुम १, ३, १, ११)।

विष्पडिवेअ } सक [विष्प्रति + वेदय्]
विष्पडिवेद } १ जानना। २ विचारना। विष्पडिवेइ (आचा १, ५, ४, ४), विष्पडि-वेदंति (सुम २, १, १५)।

विष्पडिसिद्ध वि [विष्प्रतिषिद्ध] आपस में असमत (उवर ३)।

विष्पडीव वि [विष्प्रतीप] प्रतिकूल (माल १७७)।

विष्पणट्ट वि [विष्पणट्ट] पलायित, नाश-प्राप्त (स ३५३, उवा)।

विष्पणम } सक [विष्प + णम] १ नमना।
विष्पणम } २ अक. तत्पर होना। विष्पणवति (सुम १, १२, १७)। वक्र. विष्पणमत (राज)।

विष्पणस सक [विष्प + नश] नष्ट होना, विनाश-प्राप्त होना। विष्पणसइ (कस) भवि. विष्पणस्सिहिइ (महानि ४)।

विष्पणास पु [विष्पणाश] विनाश (धर्मवि ५७)।

विष्पतार सक [विष्प + तारय] ठगना। विष्पतारसि (धर्मवि १४७)। कर्म. विष्पतारीअदि (शौ) (नाट—शकु ७५)।

विष्पदीअ } (शौ) देखो विष्पडीव (नाट-
विष्पदीव } मालती १०६, ११६, मृच्छ ४८)।

विष्पमाय पु [विष्प्रमाद] विविध प्रमाद (सुम १, १४, १)।

विष्पमुच सक [विष्प + मुच्] छोड़ना, मुक्त करना। कर्म. विष्पमुच्चइ (उत्त २५, ४१)।

विष्पमुक्त वि [विष्प्रमुक्त] विमुक्त (औप, सु २, २३७, सुपा ४४५)।

विष्पय न [दे] १ खल-भिक्षा। २ वान। ३ वि वापित। ४ पु. वेद्य (दे ७, ८६)।

विष्पयार सक [विष्प + तारय] ठगना। विष्पयारति, विष्पयारोमि (कुप्र ६, वि ८८)। कर्म. विष्पयारोअइ (कुप्र ४४)। सक्र. विष्पयारिअ (त्रि ८८)।

विष्पयारणा खी [विष्प्रतारणा] वचना, ठगई (कुप्र ४४, मोह ६४)।

विष्पयारिअ वि [विष्प्रतारित] वञ्चित, ठगा हुआ (मोह १०१)।

विष्परद्ध वि [दे] विशेष पीडित, 'करचरण-वंतमुसलप्पहारेहिं विष्परद्धे समाणे त वेव महहह पाणीय पादेउ (पाउ) समोयरोति' (एणाया १, १—पत्र ६४)। देखो परद्ध।

विष्परामुस देखो विष्परामुस, 'आवतो केयावती चोगसि विष्परामुसति अट्ठाए अणट्ठाए वा एणु वेव विष्परामुसति' (आवा)।

विष्परिणम देखो विष्परिणम। भवि. विष्परिणमिस्सति (भग)।

विष्परिणय देखो विष्परिणय (भग ५, ७ टी—पत्र २३६, काल)।

विष्परिणाम देखो विष्परिणाम = विष्परि + णम्य। विष्परिणामति, विष्परिणामेति (आचा)। सक्र. विष्परिणामइत्ता (भग)।

विष्परिणाम देखो विष्परिणाम = विष्परिणाम (आचा, भग ५, ७ टी—पत्र २३६)।

विष्परिणामिय देतो विष्परिणामिय (भग ६, १—पत्र २५०)।

विष्परियास सक [विष्परि + आसय] व्यत्यय करना, उलटा करना। विष्परियासेइ (निद्र ११)। वक्र. विष्परियासत (निद्र ११)।

विष्परियास पु [विष्पर्यास] १ व्यत्यय-विपरीतता (आचा, सुम १, ७, ११)। २ परिभ्रमण (सुम १, १२, १३, १, १३-१२)।

विसण्ण—विसाअ

विसण्ण वि [विराज्] सञ्ज्ञा-रहित, चैतन्य-वर्जित (मि ६, ६८)।

विसण्ण देवो विमन्न = विपण्ण (महा, वसु, राज)।

विमत्त वि [विमत्त] सत्त्व-रहित (वव ६)।

विस्त्व देवो वीसत्त्व (छाया १, १—पत्र १३ नरत्त १६ उप ७२८ टी)।

विसद देवा विसय = विशद (पह १, ४—पत्र ७२, वण नि ६७)।

विसद्द पु [विशद] १ विशिष्ट शब्द। २ नि विशिष्ट अदनाला (गउड)।

विसज्ज वि [विपण्ण] १ विन्न, शोक प्रस्त, विपायुक् (पगड १, ३—पत्र ५५, मुर ६, १८०, धु १२)। २ आसक्त, तल्लीन (सुस्र १, २२, २८)। ३ निमग्न, 'अतरा जेव यमि निमल' (छाया १, १—पत्र ६३)।

८ पु असयम (सुस्र १, ४, १, २६)।

विसज्ज देवो विसत्त।

विसज्जा ओ [विमज्जा] विद्या-विशेष (पउम ७, १३६)।

विमप्य भक [वि + सुप्] कैलना, विस्तरना, व्याप्त राना। वक्क विसप्पत, विसप्पमाण (तण ना, गी, तदु २३)।

विसप्प पु [विमप्य] एक नरक स्थान (वेनेन्द्र २७)।

विसप्पि वि [विमपिन्] कैलनेवाला (सुपा ६७)।

विमपि वि [विमपिन्] ऊपर देवो (मण)।

विसम देवो भागम = वि + भ्रम्। विमत्तु (२गा ३१)।

विमम वि [विमम] १ ज्ञान-भोग, उन्नत-वन्न (हुमा, गउड)। २ धम्म, असमान, धनु-य (ता, गउड)। ३ अयुग्म, एही

४ शास्त्र, कठोर, कठोर। ५ संकट, संकरा, तापी। ६ तापी (दे १, २१, पट्ट)। ६ पुन पात्तय (ता २०, २)। ७ स्तर वि [विमम] धर्मात्मानगता, धर्मत्व निर्णय-रता (म ६, २८)। ८ लोअमपु [लोचन] नशर, विर (नगा ११७)। ९ जाण पु [विमम] नरक (पु)। १० नर पु [नर] ११ (म ६, ३३, गण)।

विसमय न [दे] भल्लातक, मिलावा (दे ७, ६६)।

विसमय देवो विस मय। विसमिअ वि [विपमित] १ बीच-बीच में विच्छेदित (से ६, ८७)। २ विपम बना हुआ (गउड)।

विसमिअ वि [विस्मृत] भुला हुआ, भस्मृत (से ६, ८७)।

विसमिअ [विश्रमित] विश्रान्त किया हुआ, विश्राम-प्रापित (से ६, ८७)।

विसमिअ वि [दे] १ विमल, निर्मल। २ उचित (दे ७, ६२)।

विसमिर वि [विश्रमित] विश्राम करनेवाला।

विसम्म भक [वि + भ्रम्] विश्राम करना, आराम करना। भवि विसम्मिहड (गा ५७५)। कू. विसम्मिअव्व (से ६, २)।

विसय वि [विशद] १ निर्मल, स्वच्छ (कुप्र ४१५, सट्टि ७८ टी)। २ व्यक्त, स्पष्ट (पाप्र)। ३ धवल, सफेद (श्रीप)।

विसय पुन [विशय] १ गृह, घर (उत्त ७, १)। २ समय, सभावना (आवु १)।

विसय पु [विपय] १ गोचर, इन्द्रिय आदि से जाना जाता पदार्थ—शब्द, रूप, रस आदि वस्तु (पाप्र, कुमा, महा)। २ जनपद, देश (श्रीवमा ८, कुमा, पउम २७, ११, सुपा ३१, महा)। ३ काम-भोग, विलास, 'भोग-पुरित्तो समज्जियविसयसुहो' (ठा ३, १ टी—पत्र ११८, कम्म १, ५७, सुपा ३१, महा)। ४ वायव्य, प्रवरण, प्रस्ताव, 'जोइसविसप' (उप ६८६ टी, श्रीवमा ६)। ५ विहड पु [विपयि] दश का मालिक, राजा (सुपा ६६४)।

विसर सक [वि + सुज्] १ त्याग करना। २ जिदा करना, नेजना। विसरइ (पड्)।

विसर भक [वि + सु] सरकना, धमना, नीचे गिरना, खिसकना। वक्क विसरत (छाया १, ६—पत्र १५७, से १४, ५४)।

विसर सक वि + म्भु] मूल जाना, याद न माना। विसरइ (प्राक ६३)।

विसर पु [दे] नैग्य, नेजा, नशकर (दे ७, ६२)।

विसर पुं [विसर] सप्रह, गूथ, संघात (सुपा ३, मुर १, १८५, १०, १४)।

विसरण न [विशरण] विनाश (राज)।

विसरय पुन [दे] वाद्य-विशेष (महा)।

विसरा ओ [विसरा] मच्छी पकडने का जाल विशेष (विपा १, ८—पत्र ८५)।

विसरिअ वि [विस्मृत] याद नहीं आया हुआ (पि ३१३)।

विसरिया ओ [दे] सरट, कुमलास, गिरगिट (राज)।

विसरिस वि [विसदृश] असमान, विजातीय (सण)।

विसलेस पु [विश्लेष] जुदाई, वियोग, वृथग्राह (वड)।

विसल्ल वि [विशलय] शल्य-रहित (पउम ६३, ११, वेदय ३८७)। १ करणी ओ [करणी] विद्या-विशेष (सुस्र २, २, २७)।

विसल्ला ओ [विशल्या] १ एक महौषधि (ती ५)। २ लक्ष्मण की एक ओ (पउम ६३, २६)।

विसस सक [वि + शस] बध करना, मार डालना, 'विससेह महिसे' (मोह ७६)। कवक विससिज्जत (गउड ३१६)।

विसस देवो विससस = वि + शस। कू-विससिअव्व (स १०८)।

विससिय वि [विशसित] बध किया हुआ, जो मार डाला गया हो वह (गउड, ४७५, ससम्मत्त १४०)।

विसह सक [वि + पह] सहन करना। विसहति (उव)। वक्क विसहत्त (से १२, २३, सुपा २३३)। हेक्क विसहिट (स ३४६)।

विसह वि [विपह] सहन करनेवाला, सहिष्णु, 'वमुधरा इव सब्बफासविसहे' (कप्प, श्रीप)।

विसह देवो वसभ (गउड)।

विसहण न [विपहण] १ सहन करना (धर्मस ८६७)। २ वि, सहिष्णु (पव ७३ टी)।

विसहिअ वि [विपोढ] सहन किया हुआ (से ६, ३३)।

विसाअ (प्रप) ओ [विशवा] छन्द-विशेष (पिग)।

विष्फुरण न [विस्फुरण] १ विजृम्भण, विकास (आवक २४५, सुर २, २३७) । २ स्पन्दन, हिलन (गउड) ।

विष्फुरिय वि [विस्फुरित] विजृम्भित (सुपा २०४, सण) ।

विष्फुल्ल वि [विष्फुल्ल] विकसित, प्रफुल्ल, 'तह तह सुएहा विष्फुल्लगडविवरमुही हसइ' (वज्जा ४४) ।

विष्फोडअ पुं [विस्फोटक] फोडा (नाट—शकु २७, पि ३११, प्राप्र) ।

विष्फद देखो विष्फद । वक विष्फंदमाण (आचा १, ४, ३, ३) ।

विष्फाल सक [वि + पाटय] १ विदारण करना । २ उखाडना । सक विष्फालिय (आचा २, ३, २, ६) ।

विष्फुट्ट अक [वि + स्फुट्] फटना । वक चितति किं विष्फुट्ट चंडवभडयस्स रवो' (सुपा ४५) ।

विष्फुरण देखो विष्फुरण (सुपा २५) ।

विषधक वि [विषधक] विशेष रूप से बांधनेवाला (पच २, १) ।

विषद्ध वि [विषद्ध] १ विशेष वद्ध । २ साहित (सुम १, ३, २, ६) ।

विषाह्य वि [विषाधक] विरोधी, बाधक (धर्मस ४६६) ।

विषुद्ध वि [विषुद्ध] जागृत (सिरि ६१५) ।

विषुध (शौ) नीचे देखो (पि ३६१) ।

विषुद्ध पु [विषुध] १ देव, त्रिदश (पाप्र, सुर १, ४५) । २ परिडल, विद्वान् (सुर १, ४५) । ३ चद्र पु [चन्द्र] एक प्रसिद्ध जैनार्चाय (सुपा ६५८) । ४ पद्ध पुं [प्रभु] इन्द्र (सुर १, १७२) । ५ पुर न [पुर] स्वर्ग (सम्मत १७५) ।

विषुद्धेसर पु [विषुधेश्वर] इन्द्र (आवक ५६) ।

विषोध पु [विषोध] जागरण (पचा १, ४२) ।

विषोह्य देखो विषोह्य (कम्प) ।

विषोहण न [विषोधन] ज्ञान कराना, 'अबुहणविषोहणकरस्स' (सम १२३) ।

विषोहय वि [विषोधक] १ विकासक, 'कुमुयवणविषोहय' (कम्प ३८ टि) । २ ज्ञान-जनक (विसे १७४) ।

विष्णोअ पु [विष्णोक] विलास, लीला, 'हेला ललिअ लीला विष्णोअो विष्णोअो विलासो य' (पाप्र) । देखो विष्णोअ ।

विष्णुअ देखो विष्णुअ (अग, पव २२६, कम्म ४, १४, ४०) ।

विष्णुअि वि [विष्णुअि] विष्णुअ-ज्ञानवाला (अग) ।

विष्णुअंत वि [विष्णुअंत] १ विशेष भ्रान्त, चक्र मे पडा हुआ (आचा १, ६, ४, ३) ।

२ पु. प्रथम नरक-भूमि का सातवां नर-केन्द्रक—स्थान-विशेष (देवेन्द्र ४) ।

विष्णुअस पु [विष्णुअस] अतिपात, हिंसा, प्राण-विशेष (राज) ।

विष्णुअट्ट वि [विष्णुअट्ट] विशेष भ्रष्ट (प्रति ४०) ।

विष्णुअम पु [विष्णुअम] १ विलास (पाप्र, गउड ५५, १६७, कुमा) । २ स्त्री की शृंगार के अंग-भूत त्रेण-विशेष (गउड, गा ५) । ३ चित्त-भ्रम, पागलपन (राय) । ४ शृ गार-सवन्धी मानसिक अशान्ति (कम्प) । ५ विशेष भ्रान्ति (सुपा ३२७, गउड) । ६ सदेह । ७ आश्चर्य । ८ शोभा (गउड) । ९ भूषणों का स्थान-विपर्यय (कुमा) । १० रावण का एक सुभट (पउम ५६, २६) । ११ मेशुन, अन्नहा । १२ काम-विकार (पएह १, ४—पत्र ६६) ।

विष्णुअल वि [विष्णुअल] १ व्याकुल, व्यग्र (सुर ८, ५७, १२, १६८) । २ व्यासक्त, तल्लीन । ३ पु. विष्णु, नारायण (पड ४०, हे २, ५८) ।

विष्णुअलिअ वि [विष्णुअलिअ] व्याकुल किया हुआ (कुमा) ।

विष्णुअवण न [दे] उपधान, ओसीसा (दे ७, ६८) ।

विष्णुअडिय वि [दे] नाशित (भवि) ।

विष्णुअर देखो वेष्णुअर (पि २६६) ।

विष्णुअडि पु [दे] मत्स्य की एक जाति (विपा १, ८ टी—पत्र ८३) ।

विष्णुअइअ वि [दे] सूई से विद्ध (दे ७, ६७) ।

विष्णुअण पुं [विष्णुअण] १ विपरीत अवधिज्ञान, वितय अवधिज्ञान, मिथ्यात्व-युक्त अवधिज्ञान

(पव २२६ टी) । २ ज्ञान-विशेष (सुम २, २, २५) । ३ विराघना, खण्डन । ४ मेशुन, अन्नहा (पएह १, ४—पत्र ६६) । देखो विष्णुअ = विष्णुअ ।

विष्णुअण पुं [दे] शृण-विशेष, 'एरडे कुविदे करकरसुंटे तहा विष्णुअ य' (पएह १—पत्र ३३) ।

विष्णुअणुर वि [विष्णुअणुर] विनश्वर (सुपा ६०५, प्रासू ६६, पुफ २२०) ।

विष्णुअण सक [वि + भञ्ज] भांग डालना, तोडना । संक. विष्णुअण (काल) ।

विष्णुअणो (अप) स्त्री [विष्णुअणो] विशिष्ट भ्रम (हे ४, ४१४) ।

विष्णुअण्य वि [विष्णुअण्य] भांगा हुआ, खण्डित (पउम ११३, २६) ।

विष्णुअण सक [वि + भञ्ज] १ वटना, विभाग करना । २ विकल्प से प्राप्त करना, पक्षत प्राप्त करना—विधान और नियम करना । कर्म. विष्णुअणति (तदु २) । कवक विष्णुअणमाण (पएह १, १—पत्र ६०, उप २६४ टी) । सक. विष्णुअण (धर्मवि १०५) । देखो विष्णुअण ।

विष्णुअण न [विष्णुअण] विभाग, भाग-बंटवाई (पव ३८) ।

विष्णुअण देखो विष्णुअण । विष्णुअण (कम्म ६, १०) ।

विष्णुअणवाट } पु [विष्णुअणवाट] स्यादाद, विष्णुअणवाय } धर्मेकान्तवाद, जैन दशन (धर्मस ६२१, सुम १, १६, २२, उवर ६६) ।

विष्णुअण वि [विष्णुअण] १ विभाग-युक्त, बाटा हुआ (नाट—शकु ६६, कम्प) । २ भिन्न, अलग, जुदा, 'विष्णुअण धम्मं भोसिमाणे' (आचा कम्प, महा) । ३ न. विभाग (राज) ।

विष्णुअण्ति स्त्री [विष्णुअण्ति] १ विभाग, भेद (मग १२, ५—पत्र ५७८, सुमनि ६८, उत्तनि ३६), 'लोगस्स पएसेषु अणतएरपएय विष्णुअण्तिहि' (पच २, ३६, ४०, ६१) । २ व्याकरण प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष (श्रीयमा ६, चैय २६८, सुमनि ६६) ।

विष्णुअण न [दे] उपधान, ओसीसा (दे ७, ६८ टी) ।

विशील वि [विशील] १ ब्रह्मचर्य-रहित, व्यक्तिचारी (वसु, उप ५६७ टी)। २ सखाव स्वभाववाला, विष्णु आचरणवाला (उत्त ११, ५)।

विमुक्त अरु [वि + मुक्त] शुद्धि करना। विमुक्तद (उत्त)। वक्र विमुक्त, विमुक्तमात्र (उप ३२० टी, णाया १, १—पत्र ६६, उवा, शीप, सुर १६, १६१)।

विमुक्तिय वि [विमुक्त] विज्ञात (परह १, ४—पत्र ८५)।

विमुक्त वि [विमुक्तस] १ प्रतिकूल। २ सखाव, दुष्ट (नवि)।

विमुक्त्या देवा विमुक्त्या (आवक ५६, दम ५, १, ६)।

विमुक्त वि [विमुक्त] १ निर्मल, निर्दोष (सम ११६, ठा ८, ८ टी—पत्र २८३, प्रासू २२, उव, ह ३, ३८)। २ विशद, उज्ज्वल (परह १—पत्र ४८)। ३ पु ब्रह्मदेव-लोक वा एक प्रतर (ठा ६—पत्र ३६७)।

विमुक्ति शो [विमुक्ति] निर्दोषता, निर्मलता (शोप, गा ७३७)।

विमुक्त सक्त [वि + स्मृ] मूल जाना, याद न पाना। विमुक्तर, विमुक्तराभि (महा, पि ३१३), विमुक्तेहि (स २०४)।

विमुक्तर वि [विमुक्त] जिनका विम्वरण हुआ हो (न २६५, सुख २, २६, सुर १८, १७)।

विमुक्तरा वि [विमुक्त] खिन्न किया हुआ, अर्धविनाशिविमुक्तियाण निवृत्त सोहरग (गड ११०)।

विमुक्त [विमुक्त] रात और दिन की गणनावाला मन, वह उमय उन दिन और रात जना कराने हो (दे ७, ५०)।

विमुक्ता न [विमुक्ता] रोग विशेष देना (उत्त सुर ६६, ७३, प्राया २, २, १, ८)।

विमुक्ता वि [विमुक्त] १ कुला हुआ, हुआ हुआ (परह १, १—पत्र १८)। २ राजा, प्रभु (सूत्र १, ५, २, ६)।

विमुक्ता वि [विमुक्त] विमुक्त (प्राह ६३)।

विमुक्त वि [विमुक्त] विद करता। विमुक्त (१६, १२ प्राह, उत्त)। वक्र विमुक्त,

विपूरमाण (उव, गा ४१४, सुपा ३०२, गड)। कृ. विसुरियञ्च (गड)।

विपूरण न [खेदन] १ खेद। २ पीडा (परह १, ५—पत्र ६४)।

विपूरणा शो [खेदना] खेद, अफसोस, दुःख (से ५, ३)।

विपूरिअ वि [खिन्न] खेद-युक्त, दिलगीर (से १०, ७६)।

विपूरिअ पुन [विष्वग्हित] एक देव-विमान (सम ४१)।

विसेदि शो [विश्रेणि] १ विविशा सम्बन्धी श्रेणि, वक्र रेखा। २ वि विश्रेणि मे स्थित (एदि, पि ६६, ३०४)।

विसेस सक्त [वि + शोपय] विशेष-युक्त करना, गुण आदि द्वारा दूसरे से भिन्न करना, विशेषण से अन्वित करना, व्यवच्छेद करना। विशेष, विशेषेण (अवि, सण, सूअनि ६१ टी, भग, विसे ७६, महा)। कर्म विशेषेण (विसे ३१११)। सक्त विशेषेण (विसे ३११४)। कृ विशेषेण, विशेषेण (विसे २१५६, १०३५)।

विसेस पुन [विशेष] १ प्रभेद, पार्थक्य, भिन्नता, 'ए सपरयास विसेसमत्य' (सूत्र २, ६, ४६, भग, विसे १०५, उव)। २ भेद, प्रकार, 'दसविहे विसेसे पन्तते' (ठा १०, महा, उव)। ३ असाधारण, अयुक्त, व्यक्ति, खान (उव, जी ३६, महा, अभि २१०)। ४ पर्याय, धर्म, गुण (विसे २६७)। ५ अधिक, अतिशय, ज्यादा, 'तश्रो विसेसेण त पुज' (भग, प्रासू १७६, महा, जी ३६)। ६ तिलक। ७ साहित्यशास्त्र-प्रसिद्ध अलकार-विशेष। ८ वेदोपिक-प्रसिद्ध अन्वय पदार्थ (दे १, २६०)। ९ 'नु [त्र] विशेष जानने वाला (स ३२, महा)। १० 'ओ अ [त्स] खान करके (महा)।

विसेस पु [विश्लेष] वृत्तकरण (उव १)।

विसेसण न [विशेषण] दूसरे से भिन्नता बतानेवाला गुण आदि (उप ८४४, भास ८६, पच १, ८२, विसे ११५)।

विसेसणिज्ज देवो विसेस = वि + शोपय।

विसेसय पुन [विशेषण] तिलक, चन्दन आदि जा मस्तक-स्थित चिह्न (प्राह, से १०, ७४, वेणी ४६, गा ६३८, कुप २५५)।

विसेसिअ वि [विशेषित] १ विशेषण-युक्त किया हुआ, भेदित (सम्म ३७, विसे २६८७)। २ अतिशयित (प्राह)।

विसेस देवो विसेस = वि + शोपय।

विसेस वि [विशोक] शोक-रहित (आचा)।

विसेसिया शो [विसेसिया] १ विमार्ग-गमन, प्रतिकूल गति। २ मन का विमार्ग मे गमन, अप्रधान, दुष्ट चिन्तन (आचा, विसे ३०१२, उव, धर्मस ८१२)। ३ शका (आचा)।

विसेस पुन [दे विशोपक] कौडी का विशेषण (धर्मस ५७, पचा ११, २२)।

विसेस सक [वि + शोधय] १ शुद्ध करना, मल-रहित करना, निर्दोष बनाना। २ त्याग करना। विशेष, विशेषेण (उव, सण, कस)। विशेषेण (आचा २, ३, २, ३)। हेक्क विशेषेण (ठा २, १—पत्र ५६)।

विसेस वि [विशोभ] शोभा-रहित (दे १, ११०)।

विसेसण न [विशोधन] शुद्धि-करण (कस)।

विसेसणिया शो [विशोधना] ऊपर देखो (ठा ८—पत्र ४४१)।

विसेसिय वि [विशोधक] शुद्धि-कर्ता (सूत्र १, ३, ३, १६)।

विसेसि शो [विशोधि] १ विशुद्धि, निर्मलता, विशुद्धता (पचम १०२, १६६, उव, पिड ६७१, सुपा १६२)। २ अपराध के योग्य प्रायश्चित्त (शोप २)। ३ आवश्यक, सामयिक आदि पट-कर्म (अणु ३१)। ४ भिक्षा का एक दोष, जिस दोषवाले आहार का त्याग करने पर शेष भिक्षा या भिक्षा-दान विशुद्ध हो वह दोष (पिड ३६५)। ५ 'कोडि शो [कोटि] पूर्वोक्त विशेष-दोष का प्रकार (पिड ३६५)।

विसेसिय वि [विशोधित] १ शुद्ध किया हुआ। २ पु. मोक्ष मार्ग (सूत्र १, १३, ३)।

विमद् सक [वि + मर्दय] १ सघर्ष करना । २ मर्दन करना । कवक, विमद्दि-ज्जमाणा (सिरि १०३८) ।

विमद्द पुं [विमर्द] १ विनाश, 'आसत्तपुरिस-सतइदालिइविमद्दसंजणाय' (सुपा ३८, गउड) । २ सघर्ष (त ७२२, कुप्र ४६) ।

विमद्दण न [विमर्दन] ऊपर देखो (भवि) ।

विमद्द सक [वि + मन्] मानना, गिनना । वक, 'सर्वं सुविण व त विमन्ततो' (सुर ४, २४४) ।

विमय पुं [दे] पर्व-वनस्पति-विशेष (परए १—पत्र ३३) ।

विमर (अप) नीचे देखो । विमरह (पिग) ।

विमरिस सक [वि + मृश्] विचारना ।

क, विमरिसिदव्य (शौ) (अभि १८४) ।

विमरिस पु [विमर्श] विकल्प, विचार (राज) ।

विमल वि [विमल] १ मल-रहित, विशुद्ध, निर्मल (कप्प, औप, से ८, ४६, पउम ५१, २७, कुमा, प्रासू २, १५७, १६१) । २ पु इस अवर्षाणी-काल में उत्पन्न तेरहवें जिनदेव (सम ४३, पडि) । ३ भारतवर्ष में होनेवाले बाईसवें जिन भगवान् (सम १५४) । ४ एक प्राचीन जैन आचार्य और कवि जिन्होंने त्रिक्रम की प्रथम शताब्दी में 'पउमचरित्र' नामक जैन रामायण बनाई है (पउम ११८ ११८) । ५ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । ६ भगवान् अजित-नाथ का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१) । ७ पुन सहस्रार देवलोक के इन्द्र का एक पारियानिक विमान (ठा ८—पत्र ४३७) । ८ ब्रह्म-देवलोक में स्थित एक देव-विमान (सम १३, देवेन्द्र १४०) । ९ एक त्रैवेयक देव-विमान (सम ४१, देवेन्द्र १४१) । १० लगातार छ दिनों का उपवास । ११ लगातार सात दिनों का उपवास (सलोष ५८) । १२ पुं अहिंसा, दया (परए २, १—पत्र ६६) । १३ घोस पु [घोप] एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । १४ चद् पु [चन्द्र] एक जैन आचार्य (महा) । १५ पहा छी [प्रभा] भगवान् शीतलनाथजी की बीसा-शिविका (विचार १२६) । १६ वर

पु [वर] आनत-प्राणत देवलोक के इन्द्र का एक पारियानिक विमान (ठा १०—पत्र ५१८) । १७ वाहण पु [वाहन] १ भारत-वर्ष के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दूसरे नाम देवसेन तथा महापद्म होंगे (ठा ६—पत्र ४५६) । २ कुलकर पुरुष-विशेष (सम १०४, १५०, १५३, पउम, ३, ५५) । ३ भारतवर्ष का एक भावी चक्रवर्ती राजा (सम १५४) । ४ एक जैन, जो भगवान् अश्विनन्दन के पूर्व जन्म में गुरु थे (पउम २०, १२, १७) । ५ भगवान् सभवाण का पूर्व-जन्मीय नाम (सम १५१) । ६ सामि पु [स्वामिन्] सिद्धचक्रजी का अष्टिष्ठायक देव (सिरि २०४) । ७ सुदरी छी [सुन्दरी] षष्ठ वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८६) ।

विमल्लण न [विमर्दन] मणि आदि को शाय पर घिसना, घर्षण (दे १, १४८) ।

विमलहर पु [दे] कलकल, कोलाहल (दे ७, ७२) ।

विमला छी [विमला] १ ऊर्ध्व दिशा (ठा १०—पत्र ४७८) । २ घरखेन्द्र के लोकपालो की अग्र-महिषियो के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ३ गीतरति और गीतयश नाम के गन्धर्वों की अग्र-महिषियो के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ चौदहवें जिनदेव की बीसा-शिविका (सम १५१) ।

विमल्लिअ वि [विमर्दित] जिसका मर्दन किया गया हो वह, घट (से ६, ७) ।

विमल्लिअ वि [दे] १ मत्सर से उक्त । २ शब्द-सहित, शब्दवाला (दे ७, ७२) ।

विमल्लेसर पु [विमल्लेश्वर] सिद्धचक्रजी का अष्टिष्ठायक देव (सिरि ७७३) ।

विमल्लोत्तर पु [विमल्लोत्तर] ऐश्वर्य वर्षों का एक भावी जिनदेव (सम १५४) ।

विमहिद् (शौ) वि [विमथित] जिसका मयन किया गया हो वह (नाट—मालवि ४०) ।

विमाउ छी [विमाल] सौतेली मां (सत ३५, १७१) ।

विमाण सक [वि + मानय] अग्रमान करना, तिरस्कार करना । विमाणेज्जह (महा ५६) ।

विमाण पुन [विमान] १ देव का निवास-भवन (सम २, ८, ९, १०, १२, ठा ८, १०, उवा, कप्प, देवेन्द्र २५१, २५३, परए १, ४—पत्र ६८, ति १२) । २ देव-यान, आकाश यान, आकाश में गति करने में समर्थ रथ (से ६, ७२, कप्प) । ३ अग्रमान, तिरस्कार । ४ वि मान रहित, प्रमाण शून्य (से ६, ७२) । ५ पविमत्ति छी [पविमत्ति] जैन ग्रन्थ-विशेष (सम ६६) । ६ भवण न [भवण] विमानाकार गृह (कप्प) । ७ वासि पुं [वासिन्] देवों की एक उतम जाति, वैमानिक देव (परए १, ४—पत्र ६८, ति १२) ।

विमाणणा छी [विमानना] प्रवणणना, तिरस्कार (त्रैय १३२) ।

विमाणिअ वि [विमानित] अग्रमानित (पिड ४१३, कप्प, महा) ।

विमिस्स अ [विमृश्य] विचार करके । १ गारि वि [कारिन्] विचार-पूर्वक करने-वाला (स १८४, ३२४) ।

विमिस्स वि [विमिश्र] मिश्रित, मिला हुआ, युक्त (पत्र २, ७, महा) ।

विमिस्सण न [विमिश्रण] मिश्रण, मिलावट (सम्मत १७१) ।

विमीसिय वि [विमिश्रित] विमिश्र, मिश्रित (भवि) ।

विमुउल देखो विमउल (राज) ।

विमुच सक [वि + मुच्] १ छोड़ना, बन्धन-मुक्त करना । २ परित्याग करना । विमुचइ (सए) । कर्म विमुचई (प्रावा २, १, ६, ६) । वक विमुचत (महा) विमुच [मुच] माण (णया १, ३—पत्र ६१) । क विमोत्तव्य (उप २=४ टी), विमोप (ठा २, १—पत्र ४७) ।

विमुकुल देखो विमउल (परए १, ४—पत्र ७२) ।

विमुक्त वि [विमुक्त] १ छुटा हुआ, छुड़ा, बन्धन-रहित, जबविमुक्तेण आसिण (महा ६६, पाप्र, आचानि ३६३) । २ परित्याग 'विमुक्कजीयाण' (महा ७७) । ३ निरुप, सग रहित (प्रावा २, १६, ८) ।

विह पुत्री [विह] १ भेद, प्रकार (उवा, कण) । २ पुन आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र ७७५, आचा १, ८, ४, ५, दमनि १, २३) ।

विहउ व्री [द] वृन्ताकी, वैगन का गच्छ (दे ७, ६३) ।

विहग पु [विहङ्ग] पक्षी, चिडिया, पखेरू (पात्र, गउड, कण, सुर ३, २४५, प्रासु १७२) । *गाह पु [नाय] गउड पक्षी (गउड ८२३, ८२४, १०२२) ।

विहग पु [निभङ्ग] विभाग, टुकड़ा, अश (पएह १, ३—पत्र ५४, गउड ४०४) । देनो निभग (गउड, भवि) ।

विहगम पु [विहगम] पक्षी, चिडिया (गउड, मोह ३२, श्रु ७७, सण) ।

विहज सक [वि + भञ्] भांगना, तोडना, विनाश करना । सक विहजिवि (अप) (भवि) ।

विहजिअ वि [विभक्त] बाटा हुआ, 'आगम-चुत्तिपमाणविहजिअ' (भवि) ।

विहड सक [वि + रण्डय] विच्छेद करना, विनाश करना । विहडइ (भवि) ।

विहडण न [विण्डण] १ विच्छेद, विनाश (सम्मत ३०) । २ वि विच्छेद-कर्ता, विनाशक (मण) ।

विहडण वि [विभण्डण] नाउनेवाला, गालि-मूचक, 'अएणसि रे जइ विहडण वअण' (गा ६१२) ।

विहडिअ वि [विखण्डित] विनाशित (पिण, मण) ।

विहग पुं [विहग] पक्षी, चिडिया (पउम १४, ८०, स ६६७, उत २०, ६०) । *विहप पु [विहप] गउड पक्षी (सम्मत २१८) ।

विहग पु [विहारम्] आकाश, गगन । *गइ श्रो [गति] १ आकाश में गगन (पा ३, ६) । २ कर्म विशेष, आकाश में गति कर उठने । तारण भूव कर्म (सम ६७, ८८, १, २४, ६३) ।

विहट्ट देग विहट्ट । विहट्ट (भवि) ।

विहट्टिअ वि [विहट्टिअ] गणित, द्विपामूल (१२, ३२) ।

विहड अक [वि + घट्] नियुक्त होना, अलग होना, टूट जाना । विहडइ, विहडेइ (महा, प्राक ७१) । वक्क. विहडत (से ३, १४) ।

विहड सक [वि + घटय] तोडना, खण्डित करना । सक विहडिउण (सण) ।

विहड देखो विहल = विहल (से ४, ५४) ।

विहडण न [विघटन] १ अलग होना, वियोग (सुपा ११६, २४३) । २ अलग करना । ३ खोलना, 'तह भीणा जह मउलि-यलोयणउडविहडणे वि असमत्था' (वजा ८८) ।

विहडण पु [दे] ग्रन्थ (पड) ।

विहडणा व्री [विघटना] वियोजन, अलग करना, 'सघडणविहडणावावडेण विहिणा जणो नडिओ' (धमवि ४२) ।

विहडणफड वि [दे] १ व्याकुल, व्यग्र (हे २, १७४) । २ त्वरित, शीघ्र (भवि) ।

विहडा व्री [विघटा] विभेद, अनेक्य, फाट-फूट, 'जह मह कुडु वविहडा न घडइ कइयावि दतकलेहेण' (सुपा ४२१) ।

विहडाव सक [वि + घटय] नियुक्त करना, अलग करना । विहडावइ (महा) ।

विहडावण न [विघटन] वियोजन (भवि) । विहडाविय वि [विघटित] वियोजित (साधं ७१) ।

विहडिय वि [विघटित] १ नियुक्त, विच्छिन्न (महा ३६, ५) । २ खुला हुआ (महा ३०, ३०) ।

विहण देखो विहज । विहणति (पि ४६०) । सक विहत्तु (सुअ १, ५, १, २१) ।

विहणु वि [दे] सपूर्ण, सकल (सण) ।

विहणण न [दे] पिंजन, पीजना, धुतना (दे ७, ६३) ।

विहत्त देखो विभत्त (से ७, १५, चेइय २७४, सुर १, ४७, सुपा ३६६) ।

विहत्ति देखो विभत्ति (पउम २४, ५, उप ५ १४७) ।

विहत्तु देखो विहण ।

विहत्थ नि [विहस्त] १ व्याकुल, व्यग्र (से १२, ६९, कुअ ४०६, तित्ति ३८६, ८३६, सम्मत १६१) । २ कुशल, दल, 'पहरणवि-

हत्थहत्था' (कुअ १०३, २०६) । ३ पुं. विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त हाथ, 'पढम उत्तरिअण घवलो जा जाइ पाहुडवि-हत्थो' (सिदि ६६१), 'सद्वभाणविहत्थो' (उव) । ४ क्लीव (सम्मत १६१) ।

विहरिथ पुत्री [वितस्ति] परिमाण-विशेष, वारह अणुल का परिमाण (हे १, २१४; कुमा, अणु १५७) ।

विहदि व्री [विधृति] १ विशेष धैर्य । २ वि धैर्य-रहित (ससि ६) ।

विहन्न } सक [वि + हन्] १ मारना, विहम्म } ताडन करना । २ नाश करना ।

३ अतिक्रमण करना । विहन्नई (उत्त २, २२) । कर्म. विहन्निजा (उत्त २, १) । वक्क. विहम्ममाण, विहम्माण (पि ५६२, उत २७, ३) । कवक्क. विहम्ममाण (सुअ १, ७, ३०) ।

विहम्म वि [विधर्मन्] भिन्न धर्मवाला, विभिन्न, विलक्षण, 'मोत्तूणायसहाव वसेज्ज वत्थु' विहम्मम्मि' (विसे २२४१) ।

विहम्म सक [विधर्मय] धर्म-रहित करना । वक्क. विहम्ममाण (विपा १, १—पत्र ११) ।

विहम्म न [विधर्म्य] १ विषमता, विरुद्ध-धर्मता । २ तर्कशास्त्र प्रसिद्ध उदाहरण-भेद, वैधर्म्य-दृष्टान्त (मम्म १५३) ।

विहम्माणा व्री [विधर्मणा, विहनन] कद-थना, पीडा (पएह १, ३—पत्र ५३, विसे २३५०) ।

विहय वि [दे] पिंजित, धुना हुआ (दे ७, ६४) ।

विहय वि [विहत] १ मारा हुआ, आहत (पउम २७, २८) । २ विनाशित (महा) ।

विहय देखो विहग = विहग (गउड, सण) ।

विहय देखो विहव = विभव (दे ३, २६, नाट—मालवि ३३) ।

विहर अक [वि + ह्] १ क्रीडा करना, खेलना । २ रहना, स्थिति करना । ३ सक-

गमन करना, जाना । विहरइ (हे ४, २५६, उवा, कण, उव), विहरति (भग), विहरेज्ज (पव १०४) । भूका विहरिणु, विहरित्था (उत्त २३, ६, पि ३५०, ५१७) । भवि-

विहरिम्मइ (पि ५२२) । वक्क. विहरत,

विरइ ली [विरति] १ विराम, निवृत्ति । २ सावय — पाप कर्म से निवृत्ति, संयम, त्याग (उव, आचा) । ३ छन्द.शास्त्र-प्रसिद्ध विश्राम-स्थान, यति (विद्य ५०७) ।

विरइअ वि [विरचित] १ कृत, निर्मित, बनाया हुआ । २ सजाया हुआ (पात्र, श्रौष, कप्प, पत्र ११८, १२१; कुमा, महा, रंभा, कप्प) ।

विरइअ देखो विराइअ (कप्प) ।

विरइयव्व देखो विरय = वि + रचय् ।

विरचि पु [विरञ्चि] ब्रह्मा, विधाता (कुप्र ४०३, त्रि ८७, सम्मत १६२) ।

विरञ्च } अक [वि + रञ्च] १ रिक्त होना,
विरञ्च } उदासीन होना । २ रँग-रहित होना ।

विरञ्चइ (उव, उत २६, २, महा) । वक्क, विरञ्जत, विरञ्चमाण, विरञ्जमाण (से ४, १४, भवि, उत २६, २, गा १४६; २६६) ।

विरत्त वि [विरत्त] १ उदासीन, विराग प्राप्त (सम ५७, प्रासू १५५, १६६, महा) । २ विविध रँगवाला (आचा १, २, ३, ५) ।

विरत्ति ली [विरत्ति] वैराग्य, उदासीनता (उप पु ३२) ।

विरम अक [वि + रम्] निवृत्त होना, अट-कना । विरमइ (गा ७०८), विरमेञ्जा (आचा), विरम, विरमसु (गा ३४५, १४६) । प्रयो, हेक्क विरमावेउ (गा ३४६) ।

विरम पुं [विरम] विराम, निवृत्ति (गउड, गा ४५६, ६०६, सुर ७, १६३) ।

विरमण देखो वेरमण (राज, प्रामा) ।

विरमाण-अक [प्रति + पालय्] पालन करना, रक्षण करना-। विरमाणइ (धाल्वा १५३) ।

विरमाल सक [प्रति + ईक्ष्] राह देखना, वाट जोहना, प्रतीक्षा करना । विरमालइ (हे ४, १६३) । संक. विरमालिअ (कुमा) ।

विरमालिअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो वह (पात्र) ।

विरय सक [वि + रचय्] १ करना, बनाना । २ सजाना, सजावट करना । विरएइ, विरमति, विरमभामि, विरयइ (प्राक् ७४,

कप्प, पि ५६०, सण) । वक्क विरयमाण (सुर १६, १५) । सक्क विरइअ (नाट) । हेक्क विरइउ° (सुपा २) । क्क विरइयव्व (पत्र ६६, १६) ।

विरय वि [विरत] १ निवृत्त, रुका हुआ, विराम-प्राप्त (उवा. गा ५४१, ६ ४६) । २ पाप कार्य से निवृत्त, संयमी, ध्यागी (आचा, उव) । ३ न. विरति, विराम । ४ संयम, ध्याग (दं ४६, कम्म २, २) । °विरय वि [°विरत] आशिक संयम रखनेवाला, जैन उपासक, आचक (सम २६) ।

विरय पु [दे] छोटा जल-प्रवाह, छोटी नदी (दे ७, ३६), 'विरया तणुसरिआमो' (पात्र) ।

विरय पु [विरजस्] १ महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज २०) । २ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१) ।

विरयण चीन [विरचन] १ कृति, निर्माण । २ सजावट (नाट—मालती २८, कप्प) । ली °णा (सुपा ६५, से १५, ७१), 'पडिबट्टए विअ तसर-विरअणा' (कप्प) ।

विरया ली [विरजा] १ गो-शोक से स्थित राधा की एक सखी । २ उसके शाप से बनी हुई एक नदी, 'लघिमविरआसरिअ' (अच्छु ८६) ।

विरल वि [विरल] १ अल्प, थोडा, 'परदुक्खे दुक्खिआ विरला' (हे २, ७२, ४, ४१२, उव, प्रासू १८०, गउड) । २ अनिबिड । ३ विच्छिन्न (गउड, उव) ।

विरलि ली [दे] वज्र विशेष, डोरिया, डोरी-वाला कपडा, 'विरलिमाई भूरिभेमा' (पत्र ८४ टी) ।

विरलिअ वि [विरलित] विरल बना हुआ, विरल किया हुआ (गउड) ।

विरली देखो विराली (राज) ।

विरल सक [तन्] विस्तारना, फैलाना । विरलइ, विरल्लेइ, विरल्लति (हे ४, १३७, पड्, गउड) ।

विरल पु [तान] विस्तार, फैलाना, (वव ४) ।

विरल्लण न [तनन] विस्तार, फैलाना; 'अट्ट-मयविरल्लणे सया रमइ' (उव) ।

विरल्लिअ वि [तत] विस्तारवाला, विस्तारित (दे ७, ७१, पात्र, कुमा, णाया १, १७—पत्र २३२, ठा ४, ४—पत्र २७६), 'अह उज्जा साडोया आसुं सुक्कइ विरल्लिमा उती' (विसे २०३२) ।

विरल्लिअ देखो विरल्लिअ (राज, भवि) ।

विरल्लिअ वि [दे] जलाद्र, भोजा हुआ (दे ७, ७१) ।

विरस अक [वि + रस्] चिहाना, क्रन्दन करना । वक्क, विरसत (सण) ।

विरस वि [विरस] रस-रहित, शुष्क (णया १, ५—पत्र १११, गउड, हे १, ७, सण) । २ विरुद्ध रसवाला (भग ७, ६—पत्र ३०५) । ३ पुं रामभ्राता भरत के साथ जैन दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पत्रम ८५, ३) ४ न. तप-विशेष, निर्विकृतिक तप (सवोध ५८) ।

विरस न [दे] वर्ष, साल, वारह मास (दे ७, ६२) ।

विरसमुह पु [दे] काक, कौआ (दे ७, ४६) ।

विरसिय वि [विरसित] रस-हीन, रस-विरहित (हम्मोर ५१) ।

विरह सक [वि + रह्] १ परियाग करना । २ अलग करना । कक्क विरहिज्जत (नाट—शकु ८२) । क्क विरहियव्व (शो) (नाट—शकु ११७) ।

विरह पु [विरह] १ वियोग, विछोह, बुदाई (गउड, हे १, ८४, ११५, प्रासू १५६, कुमा, महा) । २ आन्तर, व्यवधान (भग) । ३ पु. वृक्ष विशेष, 'कुल्लति विरहस्सुवा सोउण पचमुगार' (संबोध ४७, आ ३५), 'धरा-विअो पचासने विराहो नाम तरु, वाइअण वीण कुल्लाविअो सो' (कुप्र १३६), 'कुल्लति विरहिणो विरहयव्व सहिअण पचम केवि' (कुप्र २४८) । ४ अभाव । ५ विनाश (राज) । ६ हरिकेश में उत्पन्न एक राजा (पत्रम २२, ६८) ।

विरह वि [विरथ] रस-रहित (पत्रम १-६३) ।

७, ५, रभा, महा) । ३ प्रकार भेद (से ३, ३१, परह १, १, भग) । ४ व्याकरणोक्त विधि-विशेष (परह २, २—पत्र ११४) । ५ अवस्था-विशेष (सूत्र २, १, ३२) । ६ विशेष, 'विहाणमण्ण पडुब' (भग १, १ दो) । ७ रीति (महा) । ८ क्रम, परिपाटी (बृह १) ।

विहाण न [विहाण] परिस्थान (राज) ।

विहाणिय (अण) वि [विधायिन्] कर्ता, करनेवाला (मण) ।

विहाय घक [वि + भा] १ शोभना । २ प्रकाराना, चमकना, दीपना । विहायति (म १२) । वृत् विहायत (गिरि २६८) ।

विहाय पु [विधात] १ अवसान, अंत (से १, ५६) । २ विरोधो, दुश्मन, परिपक्वी (मि ८, ५८, स ४१२) ।

विहाय देखो विभाग (गळड, से ६, ३२) ।

विहाय वि [विभात] १ प्रकाशित, 'निसा विहाय ति उट्टिमो कएहो' (हुप्र २६८) । २ न प्रगत, प्राप्त काल (से १२, १६) ।

विहाय दना विहाग = विहायस् (आ २२) ।

विहाय देना विहा = वि + हा ।

विहाय (अण) दना विहिअ (भवि) ।

विहार मक [वि + वारय्] १ अपेक्षा करना । २ विशेष रूप से धारण करना । वृत् विहारत (पजम ८, १५६) ।

विहार पु [विहार] १ निचरण, गमन, गति (पय १०८, उवा) । २ क्रीडा-स्थान (सम १००) । ३ देव-गृह, देव मन्दिर (उत्त ३०, ७, पुना) । ४ धर्मस्थान, धर्मस्थिति, 'असा-गम दइदु मम विहार' (उत्त १४, ७) । ५ क्षेत्र (डा ८, ण) । ६ मुनि-वर्तन, मुनि-गर्भ, गार्ध्यासार (म १, एदि, उव) । *भूमि खो [भूमि] १ न्याय्याय-स्थान (पात्र २, १, ८, वस, कण) । २ निचरण-भूमि (पय ८) । ३ क्रीडा-स्थान । ४ क्षेत्र जो जगत् (पय, राण) ।

विहारि वि [विहारिन्] विहार करनेवाला (पात्र ७, भा ११) ।

विहारिण न विहाडिअ, 'दुगार विहाणिय पाउ' (उत्त ६८८ दो) ।

विहाव देखो विभाव = वि + भावय् । विहा-वइ, विहावेम (भवि, वमि ५७) । कवक विहाविज्जमाण (स ४१) । कृ. विहावियव्व (उप ३४२) ।

विहावण न [विधापण] निर्माण, करवाना (वेइय ६६) ।

विहावण न [विभावन] आलोचना, 'एव विचित्तिव्व गुणदोसविहावण परम' (पचा ६, ४६) ।

विहावरी खो [विभावरी] रात्रि, निशा (पात्र, उप ७६८ टी, सुपा ३६३) ।

विहावसु पु [विभावसु] अग्नि, आग (पात्र) । देखो विभावसु ।

विहाविअ वि [विभावित] दृष्ट, निरीक्षत, 'द्वि विहाविअ' (पात्र, गा ५०७) ।

विहाविअ वि [विधावित] उल्लसित, प्रस्फुरित (स ६७) ।

विहास पु [विहास] हँसी, उपहास (भवि) ।

विहास } देखो विहसाव । सक् विहा-
विहासाव } सिऊण, विहासेऊण, विहा-
साविऊण, विहासावेऊण (प्राक् ६१) ।

विहासाविअ } देखो विहासाविअ (प्राक्
विहासिअ } ६१) ।

विहि पु [विधि] १ ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता (पात्र, अण्डु ३७, धर्मस ६२६, कुमा) । २ पुत्री प्रकार, भेद (उवा), 'सव्वाहि नयवि-हीहि' (पय १४६) । ३ शास्त्रोक्त विधान, अनुष्ठान, व्यवस्था (पचा ६, ४८, औप) । ४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (बृह १) । ५ रीति । ६ नियोग, आदेश, आज्ञा । ७ आज्ञा-सूचक वाक्य । ८ व्याकरण का सूत्र-विशेष । ९ कर्म । १० हाथी को खाने का अन्न (हे १, ३५) । ११ देव, भाग्य, 'अणुक्कलो अहव विही किमा त जन करेइ' (सुर ६, ८१, पात्र, कुमा, प्रासू ५८) । १२ नीति, न्याय । १३ स्थिति, मर्यादा (बृह १) । १४ कृति, करण (पचा ११) । *नु वि [ञ] विधि का जानकार (खाया १, १—पत्र ११, सुर ८, ११८) । *वण न [वचन] विधि-याम्य, विधि-वाद, विध्युपदेश (वेइय ७८८) । *वाट पु [वाट] वही पूर्वोक्त पर्य (नाम ७२, वेइय ७८४) ।

विहिअ वि [विहित] १ कृत, अनुष्ठित, निर्मित (पात्र, महा) । २ चेटित (औप) । ३ शास्त्र में जिसका विधान हो वह, शास्त्रोक्त (पचा १४, २७) ।

विहिस सक [वि + हिंस] विविध उपायो से मारना, वध करना । विहिसइ (आचा १, १, ४) । कृ विहिस (परह १, २—पत्र ४०) ।

विहिस वि [विहिस] हिंसा करनेवाला, 'अ-विहिसे सुव्वए दते' (आचा १, ६, ४, ३) । विहिसग वि [विहिसक] वध करनेवाला (आचा, गळड १, १०) ।

विहिसण न [विहिसण] विविध प्रकार से मारना (परह १, १—पत्र १८) ।

विहिसा खो [विहिसा] १ विशेष हिंसा (परह १, १—पत्र ५) । २ विविध हिंसा (सूत्र १, २, १, १४) ।

विहिण्ण वि [विभिन्न] १ जुदा, अलग-विभिन्न (से ७, ५३, १३, ८६, भवि) । २ खिण्डित, भांग कर टुकड़ा-टुकड़ा बना हुआ (से ३, ६०) ।

विहिम न [दे] जगल, अरण्य (उप ८४२ टी) ।

विहिमिहिय वि [दे] विकसित, प्रफुल्ल (षड्) ।

विहियव्व देखो विहे = वि + धा ।

विहिविल्ल सक [वि + रचय्] बनाना, निर्माण करना । विहिविल्लइ (प्राक् ७४) ।

विहीण वि [विहीण] १ वर्जित, रहित (प्रासू १७२) । २ व्यक्त (कुमा) ।

विहीर सक [प्रति + ईक्ष] प्रतीक्षा करना, वाट जोहना । विहीरइ (हे ४, १६३), विहीरह (स ४१८) ।

विहीर वि [प्रतीक्ष] प्रतीक्षा करनेवाला (कुमा ७, ३८) ।

विहरिअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो वह (पात्र) ।

विहीसण देखो विभीसण (से ८, ५५) ।

विहीसिया देखो विभीसिया (सुपा ५४१) ।

विहु पु [विहु] १ चन्द्र, चाँद (पात्र) । २ विष्णु, श्रीकृष्ण । ३ ब्रह्मा । ४ शकर,

विरुद्ध वि [विरुद्ध] विरोधवाला, विपरीत, प्रतिकूल, उलटा (औप, गउड)। 'थारि वि [चारिन्] विपरीत आचरण करनेवाला (उप ७२८ टी)।

विरुव देखो विरुव (दे ६, ७५)।

विरुह अक [वि + रुह्] विशेष रूप से उगता, अक्रुरित होना। विरुहति (उत्त १२, १३)।

विरुह देखो विरुह (परा १—पत्र ३६, धा २०)।

विरुअ } वि [विरुप] १ कुरूप, भौंडा,
विरुव } कुडौल, खराब, कुत्सित (गा २६३, भवि. स्वप्न ४४, सुर १, २६, उप ७२८ टी)। २ विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा (सुर ११, ८०)। ३ बहुविध, अनेक तरह का, नानाविध (आचा)।

विरुह पुन [विरुह] अक्रुरित द्विदल-धान्य (पत्र ४)।

विरेअ सक [वि + रेचय्] १ मल को नीचे से निकालना। २ बाहर निकालना। विरेअइ (हे ४, २६)। वहु विरेअत (कुमा ६, १७)।

विरेअण न [विरेचन] १ मल-निकासरण, जुलाव (उवकू २५, राया १, १३—पत्र ६८१)। २ वि भेदक, विनाशक, 'सयल-बुक्खविरेयण समएत्तएति' (स २७८, ६६३)।

विरेअइ देखो विरिअइ = तव (राया १, १७ टी—पत्र २३४, गउड ४३५)।

विरोयण पुं [विरोचन] अग्नि, वद्धि (भत्त १२३)।

विरोल सक [मन्थ्] विलोडना, विलोडन करना। विरोलइ (हे ४, १२१, पड्)।

विरोल सक [वि + लम्] १ अवलम्बन करना। २ आरोहण करना, चढ़ना। विरोलइ (धात्वा १५३)।

विरोलिअ वि [मथित] विलोडित (पाम्, कुमा, भवि)।

विरोह सक [वि + रोधय्] विरोध करना। विरोहति (संबोध १७)।

विरोह पु [विरोध] विरुद्धता, प्रतीपता, वैर, दुश्मनाई (गउड, नाट—मालती १३८, भवि)।

विरोहय वि [विरोधक] विरोध-कर्ता (भवि)।

विरोहि वि [विरोधिन्] दुश्मन, प्रतिपन्थी (पि ४०५, नाट—शकु १६)।

विरोहिय वि [विरोधित] विरोध-प्राप्त (वज्जा ७०)।

विल अक [व्रीड्] लज्जा करना, शरमिन्दा होना। सक्क विलिऊण (स ३७५)।

विल न [विल] नमक विशेष, एक तरह का नोन (आचा २, १, ६, ६)।

विलइअ वि [दे] १ अधिष्य, धनुष की डोरी पर चढाया हुआ। २ दीन, गरीब (दे ७, ६२)। ३ ऊपर चढाया हुआ, आरोपित 'आणा जस्स विलइआ सोसे सेसव्व हरिहरे-हिपि' (षण २५), 'पडुमं चिअ रहुवइणा उवर्दि हिअए तुत्तिओ भरोव्व विलइओ' (से ३, ५)।

विलओला पु [दे] लुटाक, लुटेरा (राज)।

विलओली छी [दे] १ विस्वर वचन। २ विलोकना, तलाशी (परा १, ३—पत्र ५३)। देखो विलओली°।

विलघ सक [वि + लड्] उल्लघन करना। विलघति (धर्मसं ८४२)। वहु विलघत (काल)।

विलघण न [विलङ्घन] उल्लघन, अतिक्रमण, 'ही ही सीलविलघण' (उप ५६७ टी)।

विलघल (अप) देखो विहलघल (सण)।

विलघलिअ (अप) वि [विह्-वलाङ्गित] व्याकुल शरीरवाला, 'मुच्छविलघलिअ' (सण)।

विलव देखो विडव = वि + डम्बय् । वहु विलवमाण (धर्मसं १००५)।

विलव अक [वि + लम्ब] १ देरी करना। २ सक लटकाना, धारण करना। कर्म विलवोअदि (शौ) (नाट—विक्र ३१)। वहु विलवत (से ३, २६)। सक्क विलविअ (नाट—वेणी ७२)। क विलवणिज्ज (धा १४)।

विलव पुं [विलम्ब] १ देरी, अशीघ्रता (गा ५८८)। २ तप-विशेष, पूर्वार्ध तप (संबोध

५८)। ३ न नक्षत्र-विशेष, सूर्य के द्वारा परिभोग कर छोड़ा हुआ नक्षत्र (विसे ३४०६)।

विलवण वि [विलम्बक] धारण करनेवाला (सूअ १, ७, ८)।

विलवणा देखो विडवणा (प्रासू १०३)।

विलवणा छी [विडम्बना] निर्वर्तना, बनावट, कृति (अपु १३६)।

विलवि न [विलम्बिन्] १ सूर्य के द्वारा भोकर छोड़ा हुआ नक्षत्र। २ सूर्य जिसपर हो उसके पीछे का तीसरा नक्षत्र (वव १)।

विलविअ वि [विलम्बित] १ विलम्ब युक्त (कप्प)। २ न नक्षत्र-विशेष (वव १)। ३ नास्त्र-विशेष (राय)।

विलवन्ध वि [विलध्] १ लजित, शरमिन्दा (से १०, ७०, सुर १२, ६६, सुपा १६८, ३२८, महा, भवि)। २ प्रतिभा शून्य, मूढ (से १०, ७०)।

विलक्ख न [वैलक्ष्य] विलक्षता, लज्जा, शरम (सुर ३, ७६६)।

विलक्खिअ पुत्री ऊपर देखो, 'उवसमियवित्-क्खिअ' (भवि)।

विलग्ग सक [वि + लग्] १ अवलम्बन करना, सहारा लेना। २ चढ़ना, आरोहण करना। ३ पकड़ना। ४ चिपटना। गुजराती में 'वव्गवु'। विलगति, विलग्गेजासि (महा)। वहु विलग्गन (पि ४८८)।

विलग्ग वि [विलग्न] १ लगा हुआ, चिपटा हुआ, संलग्न, 'जह लोहसिआ अण्णपि धोणं तह विलग्गपुरिसपि' (संबोध १३, से ४, २, ३, १४२, गा १८८, ३५६, महा)। २ अवलम्बित (सुर १०, ११४)। ३ माल, 'अन्नया आयरिया सिद्धसेल तेण सम वदणा विलग्गा' (सुख १, ३)।

विलज्ज अक [वि + लज्] शरमाना। विलज्जामि (कुप्र ५७)।

विलट्ठि पुत्री [वियाट्टि] साठे तीन हाथ में चार अणुल कम लट्टी, जैन साधुमा का उपकरण-दंड (पव ८१)।

विलद्ध वि [विलद्ध] धन्द्यो तरह प्राप्त, सुलब्ध, (पिंग)।

वीआविय नि [नीजित] जिसको पता से हना कराई गई हो वह (स ५४६) ।

वीइ पुत्री [वीचि] १ तरंग, कल्लोल (पात्र, श्लोप) । २ आकाश, गगन (भग २०, २—७७५) । ३ सप्रयोग, सवन्ध (भग १०, २—पत्र ८६५) । ४ पृथग्भाव, जुनाई (भग १४, ६ टी—पत्र ६४४) । °द्वय न [°द्वय] प्रदेश से न्यून द्रव्य, श्रवणव-हीन वस्तु (भग १४, २ टी—पत्र ६४४) ।

वीइ स्त्री [विट्टिनि] १ विरूप कृति, दुष्ट क्रिया । २ वि दुष्ट क्रियावाला (भग १०, २—पत्र ८६५) । ३ देखो विगइ (कम ८, ५ टी) ।

वीइगाल वि [वीताङ्गार] राग-रहित (भग ७, १—पत्र २६२, पि १०२) ।

वीइफत वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, गुजरा हुआ, वामोए राईदिएहि वीइफकतेहि' (सम ८६) । २ जिसने उल्लघन किया हो वह (भग १०, ३ टी—पत्र ४६६) ।

वीइफस सक [व्यति + क्रम्] उल्लघन करना । यह वीइफसमाण (कस) ।

वीइजमाण देखो वीअ = वीजय् ।

वीइमिस्म नि [व्यतिमिश्र] मिश्रित, मिला हुआ (आचा) ।

वीइर वि [नीजित] जिसको हवा की गई हो वा (आप, महा) ।

वीइरय सव [व्यति + व्रज्] १ पत्रि-मण करना । २ गमन करना, जाना । ३ उल्लघन करना । वीइरयइ, वीइरइजा, वीइरयजा (गुज २० टी, भग १०, ३—पत्र ८६८) । यह वीइरयमाण (आया १, १—पत्र ३१) । यह वीइरइत्ता, वीइरयत्ता (ना २, ८, १०, ३—पत्र ८६६) ।

वीइ आ वेगा वीइ = वीचि (पात्र, ना १०, २ २० २) ।

वीइ म [विचि] एवम् लोकर, जुना होकर (ना १०, २—पत्र ८६५) ।

वीइ म [विचि] गिता करने (ना १०, २—पत्र ८६५) ।

वीइवय देखो वीइवय । वीइवयइ (भग, सुज २० टी, भग ७, १०—पत्र ३२४) । वक्र, वीइवयमाण (राय १६, पि ७०, १५१) ।

वीचि देखो वीइ = वीचि (कप्प, भग १४, ६—पत्र ६४४) ।

वीचि स्त्री [दे] लघु रथ्या, छोटा मुहल्ला (दे ७, ७३) ।

वीज देखो वीअ = वीजय् । वीजइ, वीजेमि (हे ४, ५, पइ मै ६६) ।

वीजण देखो वीअण (कुमा) ।

वीजिय देखो वं इय (स ३०८) ।

वीडग } देखो वीडग (म ६७) ।
वीडय }

वीडय पु [वीडक] लजा, शरम (गउड ७३१) ।

वीडिअ वि [वीडित] लजित, शरमिन्दा (आया १, ८—पत्र १४३) ।

वीडिआ स्त्री [वीटिका] सजाया हुआ पान, बीडा (गउड) । देखो वीडी ।

°वीड देखो पीठ (गउड, उप पृ २२६, भवि) ।

वीण सक [वि + चारय्] विचार करना । वीणइ, वीणइ (वात्वा १५३, प्राकृ ७१) ।

°वीण देखो पीण (सुर १३, १८१) ।

वीणण न [दे] १ प्रकट करना (उप पृ ११८) । २ विदित करना, ज्ञापन (उप ७६५) ।

वीणा स्त्री [वीणा] वाय-विशेष (औप, कुमा, गा ५६१, स्वज ६७) । °यरिणी स्त्री [°करी] वीणा-नियुक्त दासी, 'ता लहु वीणायरिणि सहेहि, सद्धिया वीणायरिणी' (स ३०६) । °वायग वि [°वादक] वीणा बजानेवाला (महा) ।

वीत देखो वीअ = वीत (ठा २, १—पत्र ५२, परण १—पत्र ४६८, सुज २०—पत्र २६५) ।

वीतिकत } देखो वीइकत (भग १०, ३—
वीतिकत } पत्र ८६८, आया, १, १—पत्र २८, २६) ।

वीनियय } देखो वीइयय । वीनिययति (भग) ।
वीनीयय } वीनीयय (आया १, १२—पत्र १७८) । यह वीनिययमाण (कप्प) ।
सट वीनिययत्ता (श्लोप) ।

वीमस सक [वि + मृश्, मीमांस] विचार करना, पर्यालोचन करना । संकृ, वीमसिय (सम्मत्त ५६) ।

वीमसय वि [विमर्शक, मीमांसक] विचार-कर्ता (उव) ।

वीमसा स्त्री [विमर्श, मीमांसा] विचार, पर्यालोचन, निर्णय की चाह (सूत्र १, १, २, १७, विसे २८६, ३६६, ५६५, उप ५२०) ।

वीमसिय वि [विमर्शित, मीमांसित] विचारित, पर्यालोचित (सम्मत्त ५४) ।

वीर पु [वीर] १ भगवान् महावीर (परह १, १—पत्र २३, १, २, सुज २०, जी १) । २ छन्द-विशेष (पिंग) । ३ साहित्य-प्रसिद्ध एक रस (अणु १३६) । ४ वि पराक्रमी, शूर (आचा, सूत्र १, ८, २३, कुमा) । ५ पुंन एक देव-विमान (सम १२, इक) । ६ न वैताव्य पर्वत की उत्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक) । °वत पुन [°कान्त] एक देव-विमान (सम १२) °कण्ह पु [°कृष्ण] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (निर १, १, पि ५२) । °कणहा स्त्री [°कृष्णा] राजा श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) । °कूड पुन [°कूट] एक देव-विमान (सम १२) । °गत पुन [°गत] एक देव-विमान (सम १२) । °जस पु [°यशस्] भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८—पत्र ४३०) । °ज्मय पुन [°ध्वज] एक देव-विमान (सम १२) । °धवल पु [°धवल] गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा (ती २, हमीर १३) । °निहाण न [°निधान] स्थान-विशेष (महा) । °पभ न [°प्रभ] एक देव-विमान (सम १२) । °भइ पु [°भट्ट] भगवान् पारवनाथ का एक गण-धर (सम १३, कप्प) । °भई स्त्री [°मती] एक चोर-भगिनी (महा) । °लेस पुन [°लेश्य] एक देव विमान (सम १२) । °वण्ण पुन [°वर्ण] एक देव-विमान (सम १२) °वरण न [°वरण] प्रतिघुमट से युद्ध का स्वोकार, 'इस घोडा से मे लडूंगा' ऐसी युद्ध की माल (कुमा ६, ४६, ५२) । °वरणी स्त्री

विलुंगायाम वि [दे] निर्णय, अकिंचन, साधु, 'एस विलु गयामो सिजाए' (आवा २, १, २, ४)।

विलुंचण न [विलुञ्चन] उन्मूलन, जड से उखाडना (पएह १, १—पत्र २३)।

विलुंप सक [वि + लुप] १ लुटना। २ काटना। ३ विनाश करना। विलु पति, विलु पह (आवा, सूत्र २, १, १६, पि ४७१), 'अर्थ चोरा विलु पति' (महा)। वक्र, विलुंपमाण (सुपा ५७४)। कवक विलुंपपत, विलुंपमाण (पउम १६, ३१, सुपा ८०, सुर २, २१, उवा)।

विलुंप सक [काइक्ष्] अभिलाष करना, चाहना। विलु पइ (हे ४, १६२)।

विलुपइत्तु वि [विलोपत्] विलोप-कर्ता, काटनेवाला (सूत्र २, २, ६)।

विलुपय पुं [दे] कीट, कीडा (दे ७, ६७)।

विलुपिअ वि [काइक्ष्] अभिलषित (कुमा ७, ३८, दे. ७, ६६)।

विलुंपिअ पु [दे विलुप] आशित, कवलित, खाय हुआ, 'घट्य कवलिअ अस्सिअ विलुंपिअ वफिअ खइअ' (पात्र)। देखो विलुत्त।

विलुंपित्तु देखो विलुपइत्तु (आवा)।

विलुक्क [दे] छिपा हुआ (भवि)।

विलुक्क वि [विलुञ्चित] विमुण्डित, सर्वथा केश-रहित किया हुआ (पिड २१७)।

विलुत्त वि [विलुत्त] १ काटा हुआ, छिन्न, 'विलुत्तकेसि' (पउम १०२, ५३, पएह १, ३—पत्र ५४)। २ लुण्ठित, लुटा हुआ, 'इमाइ अडवीइ वाणियगसत्थो। मह पुरिसेहि विलुत्तो, पत्त वित्त तहि पउर' (सुर ११, ४८)। ३ विनष्ट, 'तुम उए जलविलुत्तप्पसाहए जेव सुमरसि' (कप्प)।

विलुत्तहिअ वि [दे] जो समय पर काम करने को न जानता हो वह (दे ७, ७३)।

विलुत्तपत } देखो विलुप।
विलुत्तमाण }

विलुत्तअ वि [विलुत्त] उपमहित (से ६, १२)।

विलुत्त वि [विलुत्त] काटा हुआ, छिन्न (सुपा ६)।

विलेवण न [विलेपन] १ शरीर पर लगाने का चन्दन, कुकुम आदि पिठ द्रव्य (कुमा, उवा, पात्र)। २ लेपन-क्रिया (श्रौप)।

विलेविअ वि [विलेपित] विलेपन-युक्त (सए)।

विलेविआ स्त्री [विलेपिका] पान-विशेष (राज)।

विलेहिअ वि [विलेखित] चित्रित किया हुआ (सुर १२, ११७)।

विलोअ सक [वि + लोक्] देखना। कर्म विलोइज्जति, विलोइअति (पि ११)। कवक विलोइज्जमाग (उप पु ६७)। सक्क, विलोइऊण (काप्र १६५)।

विलोअ पु [विलोक] आलोक, प्रकाश (उप पु ३५८)।

विलोअ देखो विलोव (सुपा ४४०)।

विलोअण पुन [विलोचन] आख, नेत्र (काप्र १६१, गा ६७०, सुपा ५२६)।

विलोअण न [विलोचन] १ देखना, निरीक्षण। २ वि देखनेवाला, 'लोयालोयविलोअणकेवलनारोए नायमानवस्त' (सुर ४, ८६)।

विलोट्ट अक [विस + वट्ट] १ अप्रमाणित होना, झूठा साबित होना। २ उलटा होना, विपरीत होना। विलोट्टइ, विलोट्टए (हे ४, १२६, भवि, स ७१६)।

विलोट्ट } वि [विसवदित] १ जो झूठा
विलोट्टिअ } साबित हुआ हो (कुमा ६, ८८)। २ जो कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-च्युत, 'कन्नाए समयमहिलाईलोयवठ्ठो विट्टिट्टो सो' (उप ५६७ टी)। ३ विरुद्ध बना हुआ, 'चउरो महनरवइणी विलोट्टि (१ ट्टि) या चउदिसि पि अइबलिणो' (सुपा ४५२)।

विलोड सक [वि + लोडय्] मयन करना। विलोडेइ (कुप्र ३४७)।

विलोडिय वि [विलोडित] मथित (कुप्र ७८)।

विलोभ सक [वि + लोभय्] १ लुब्ध करना, लुभाना, आसक्त करना। २ लालच देना। ३ विस्मय उपजाना। क विलोभ-गिज्ज (कुप्र १३८)।

विलोल देखो विलोड। वक्र, विलोलत (उप पु ८७)।

विलोल अक [वि + लुट्] लेटना, 'विलो लति महीतले विसुणियगमगा' (पएह १, १—पत्र १८)।

विलोल वि [विलोल] चक्क, अस्थिर (से २, १६, गउड, कप्प)।

विलोव पु [विलोप] लुटा, डकैती, 'सत्य-विलोवे जाए' (सुर १५, १८)।

विलोवण न [विलोपन] ऊपर देखो, 'परवणविलोवणाईण' (उव)।

विलोवय वि [विलोपक] लुटनेवाला, लुटेरा, 'अद्दाणम्मि विलोवए' (उत्त ७, ५)।

विलोह देखो विलोभ। हेक्क, विलोहइदु' (शो) (मा ४२)।

विलोहण वि [विलोभन] १ आरचय-कारक। २ लुभानेवाला, 'मुद्धमइविलोहण नेय' (आवक १३२)।

विल अक [वेइ] चलना, हिलना, 'वित्तदि-इदुमपल्लवा' (रभा)।

विल देखो विल (हे १, ८५, राज)।

विल वि [दे] १ अच्छ, स्वच्छ। २ विलसित, विलास युक्त (दे ७, ८८)। ३ पुन सुगयी द्रव्य-विशेष, जो क्षुप के काम में आता है, 'डउभतविल्लगुगुलुपवियभियवूमसयाम' (स ४३६)।

विल्लय देखो विल्लअ (श्रौप)।

विल्लय देखो वेहग (सुपा २७६)।

विल्लरी स्त्री [दे] केश, बाल (दे ७, ३२)।

विल्लल देखो विल्लल (इक)।

विल्लल देखो वेहल (प्रवि २३)।

विल्ली स्त्री [विल्ली] गुच्छ-वनस्पति विशेष (पएण १—पत्र ३२)।

विल्लह वि [दे] धवल, सफेद (दे ७, ६१)।

विष देखो इव (हे २, १८२; गा २६०, ६०६ अ, कुमा)।

विषइ स्त्री [विपट्] विपत्ति, कष्ट, दुःख (उप ७७१, हे ४, ४००)। 'गर वि [कर] दु ख जनक (कुमा)।

विपइ स्त्री [विपट्] व्याख्या, विवरण, टीका (कुप्र १६)। देखो विचदि।

वीसाम पु [विश्राम] १ विराम, उपरम । २ प्रवृत्त व्यापार वा श्रवसान, चालू क्रिया का अंत (हे १, ४३ ने २, ३१, महा) ।

वीसामण देवो विस्सामण (कुप्र ३१०) ।

वीसामणा देवो विस्सामणा (कुप्र ३१०) ।

वीसाय देवो विसाय = वि + स्वाद्य । कृ. विसायणिज्ज (परएण १७—पत्र ५.२) ।

वीसार देवा विस्सार = वि + स्मृ । वीसारेड (धर्मवि ५२१) ।

विसारिअ वि [विस्मारित] भुलवाया हुआ (कुमा) ।

वीसाल नक [मिश्रय] मिलाना, मिलावट करना । वीसालद (हे ४, २८) ।

वीसालिअ वि [मिश्रित] मिलाया हुआ (कुमा) ।

वीसाम्भे (अप) देवो वीसाम (कुमा) ।

वीसाम देवो विस्सास (प्राप्र, कुमा) ।

वीसिया जी [विशिका] वीस सख्यावाला (वय १) ।

वीसु न [दे] युक्त, ध्वग्, जुदा (दे ७, ७३) ।

वीसु अ [विप्रा] १ समन्तात्, सब ओर से । २ समन्तपन, सामन्त्य (हे १, २४, ४३, ५२, पद्दुमा, दे ७, ७३ टी) ।

वीसुभ दगा वीसाम्भे = वि + अम्भ । वीसु-नेज्जा (ठा १, २—पत्र ३०८, कम) ।

वीसुभ अक [दे] ध्वग् होना, जुदा होना । वीसुभजा (ठा ४, २—पत्र ३०८, कस) ।

वीसुभण न [दे] ध्वग्भाव, भ्रमण होना (ठा १, २ टी—पत्र ३१०) ।

वीसुभण न [विश्रमण] विश्रमण (ठा ५, ० टी—पत्र ३१०) ।

वीसुअ नो विस्सुअ (परएह १ ८—पत्र ६८) ।

वीसुअ नो विस्सुअ (नास १०, सुदि वीसुअ १८) ।

वीसुअ नो विस्सुअ (नास १०, सुदि वीसुअ १८) ।

वीहि } वी [वीथि, °का, °थी] १ मार्ग,
वीहिया } रास्ता (आचा: सूअ १, २, १,
वीही } २१, प्रयौ १००, गउड ११८८) ।
२ श्रेणी, पक्ति (स १४) । ३ क्षेत्र-भाग (ठा ६—पत्र ४६८) । ४ बाजार (उप २८, महा) ।

वुअ वि [दे] १ बुना हुआ । २ बुनवाया हुआ, 'जन्म तयट्ठा कीय नेव बुय ज न गहियमन्नेसि' (पव १२५) । देखो वूय ।

वुअ } वि [वृत्] १ प्राथित । २ प्रार्थना
वुइय } आदि से नियुक्त, 'वुओ' (सखि ४) ।
३ वेष्टित, 'कुक्कम्मवुइया' (सुपा ६३) ।

वुइय वि [उक्त] कथित (उत्त १८, २६) ।

वुज (?) सक [उद् + नमय] ऊँचा करना ।

वुज्ज (घात्वा १५४) ।

वुताकी वी [वृन्ताकी] वैगन का गाछ (दे ७, ६३) ।

वुद देवो वद = वृन्द (गा ५५६, हे १, १३१) ।

वुदारय देवो वंदारय (दे १, १३२, कुमा, पद्) ।

वुदावण देवो विंदावण (हे १, १३१, प्राप्र-सखि ४, कुमा) ।

वुद्रे देवो वद्रे (हे १, ५३, कुमा १, ३८) ।

वुक्क देवो वुक्क = दे (सएण) ।

वुक्कत वि [व्युत्क्रान्ति] १ प्रतिक्रान्त, व्यतीत, गुजरा हुआ, 'वोलीण वुक्कत अडचिअ वोलिअ अशकत' (पाअ), 'वुक्कतो बहुकालो वुह पयसेव कुणतस्स' (सुपा ५६१) । २ विव्वस्त, विनष्ट (राज) । ३ निष्क्रान्त, बाहर निकला हुआ (निचू १६) । देखो वोक्कत ।

वुक्कति वी [व्युत्क्रान्ति] उत्पत्ति (राज) ।

वुक्कम पु [व्युत्क्रम] १ वृद्धि, वढाव (सूअ २, ३, १) । २ उत्पत्ति (सूअ २, ३, १, २, ३, १७) ।

वुक्कस सक [व्युत् + कृप्] पीछे खीचना, वापस लाटना । वुक्कसाहि (आचा २, ३, १, ६) ।

वुक्कार देवो वुक्कार (सएण) ।

वुक्कार सक [दे वृद्धारय] गर्जन करना । वुक्कारति (राय १०१) ।

वुक्कारिय न [दे वृद्धारित] गर्जना (स ५८८) ।

वुग्गह पु [व्युद्ग्रह] १ कलह, झगडा, विग्रह, लडाई (ठा ५, १—पत्र ३००, वव १, पव २६८) । २ घाड, डाका (उप पु २४५) । ३ बहकाव (सबोध ५२) । ४ मिथ्याभिनिवेश, कदाग्रह (राज) ।

वुग्गहअ वि [व्युद्ग्रह] कलह-कारक, 'नय वुग्गहिअ कह कहिजा' (दस १०, १०) ।

वुग्गहिअ वि [व्युद्ग्रह] कलह-सबन्धी (दस १०, १०) ।

वुग्गाह सक [व्युद् + ग्राहय] बहकाना, भ्रान्त-चित्त करना । वुग्गाहेमो (महा) ।

वुग्गाहेमाण (णाय १, १२—पत्र १७४, औप) ।

वुग्गाहणा वी [व्युद्ग्राहणा] बहकाव (ओषमा २५) ।

वुग्गाहिअ वि [व्युद्ग्राहित] बहकाया हुआ, भ्रान्तचित्त किया हुआ (कस, चेइय ११७, सिरि १०८१) ।

वुच्चं देवो वय = वच् ।

वुच्चमाण वि [उच्यमान] जो कहा जाता हो वह (सूअ १, ६, ३१, भग, उप ५३० टी) ।

वुच्चा अ [उक्त्वा] कह कर (सूअ २, २, ८१, पि ५८७) ।

वुच्छं देवो वच्छं = वृक्ष (नाट—मूच्छ १५४) ।

वुच्छं देवो वोच्छं (कम्म १, १) ।

वुच्छं देवो वोच्छिद ।

वुच्छिण देवो वुच्छिण (राज) ।

वुच्छित्ति देवो वोच्छित्ति (विसे २४०५) ।

वुच्छिन्न वि [व्युच्छिन्न, व्यवच्छिन्न] १ अपगत, हटा हुआ । २ विनष्ट (उव) । ३ न. लगातार चौदह दिनों का उपवास (सबोध ५८) ।

वुच्छेअ देवो वोच्छेअ (पव २७३, कम्म २, २२, मुवा २५४) ।

वुच्छेयण देवो वोच्छेयण (ठा ६—पत्र ३५८) ।

वुज्ज अक [वृत्] डरना । वुज्जइ (प्राप्र) । देवो वोज्ज ।

वुज्जण न [दे] स्वगन, आच्छादन, ढकना (धर्मस १०२१ टी, ११०२) ।

विवर न [विवर] १ छिद्र (पाम्, गउड, प्रासू ७३) । २ कन्दरा, गुहा (से ६, ४६) । ३ एकान्त, विजन, 'कामञ्जयए गरियाए च्छूणि अतराणि य छिद्राणि य विवराणि य पडिजागरमाणे २ विहरति' (विपा १२—पत्र ३४) । ४ पुन आकाश (भग २०, २) ।

विवरमुह वि [विपराङ्मुख] विमुख, पराङ्मुख (पउम ७३, ३०, से ६, ४२) ।

विवरण न [विवरण] १ व्याख्यान, 'सोऊण सुमिणविवरण' (सुपा ३८) । २ व्याख्याकारक ग्रथ, टीका (विसे ३४२२, पव—गाथा ३६, सम्पत्त ११६) । ३ बाल सँवारना (दे १, १५०, पत्र ३८) ।

विवरामुह } देखो विवरमुह (भवि, से ११,
विवरामुह } ८५) ।

विवरिअ वि [विवृत्] व्याख्यात (विसे १३६६, स ७१७) । देखो विवुअ ।

विवरिअ (अप) नीचे देखो (सण) ।

विवरीअ वि [विपरीत] उलटा, प्रतिकूल (भग १, १ टी, गउड, कप्पू, जी १२, सुपा ६१०) । °णु वि [°इ] उलटा, जाननेवाला (धर्मस १२७४) ।

विवरीर } (अप) ऊपर देखो, 'घइ विवरीरी
विवरेर } बुड्डी होइ विणासहो कालि'
(हे ४, ४२४), 'माइ कण्णु विवरेरओ दीसइ'
(भवि) ।

विवरुक्ख } वि [विपरोक्ष] परोक्ष, अ-
विवरोक्ख } प्रत्यक्ष, 'जावच्चिय वहवयणो
विवरोक्खो आवलीए धूयाए' (पउम ६,
११) । २ न अभाव, 'पासम्मि अहकारो
होहिइ कह वा गुणएण विवरुक्खे' (गउड
७६) । ३ परोक्षता, अप्रत्यक्षपन,

'इय ताहे भावागयपच्चवखायतएरवइगुणएण ।
विवरोक्खम्मि वि जाया कईए सबोहणालावा'
(गउड १२०४) ।

विवल अक [वि + वल्] मुडना, टेडा होना (गउड ४२४) ।

विवला } अक [विपरा + अय्] पलायन
विवलाअ } करना, भाग जाना । विवलाइ,
विवलायइ, विवलाअति (गउड ६३४,
११७६, पि ५६७) । वक्क, विवलाअत,

विचलाअमाण (से ३, ६०, गा २६१,
गउड १६६, से १५, १४, गउड ४७२) ।

विचलाअ वि [विपलायित] भागा हुआ (से १, २, १४, ३०) ।

विचलिअ वि [विचलित] मोडा हुआ,
परावर्तित (गा ६८०, गउड ४२४, काप्र १६५) ।

विचलीअ देखो विवरीअ, 'विवलीअभासए'
(अणु) ।

विचल्हत्थ वि [विपर्यस्त] विपरीत, उलटा (से ६, ८) ।

विचस वि [विचश] १ अधीन, परायत्त,
परतन्त्र (प्रासू १०७ कुमा, कम्म १, ५७) ।
२ बाध्य, लाचार (कुप्र १३५) ।

विचह सक [वि + वह्] विवाह करना,
शादी करना (प्रामा) ।

विचहण न [विच्यधन] विनाश (याया १,
१—पत्र ६५) ।

विचाइअ व [विपादित] व्यापादित, जो
जान से मार डाला गया हो वह, 'छिद्देण
विचाइओ वाली' (पउम ३, १०, उत १६,
५६, ६३) ।

विचाउग वि [विचादक] विवाद कर्ता (स
४५६) ।

विवाग पु [विपारु] १ कर्म—परिणाम, सुख-
दुःखादि भोग रूप कर्म-फल (आ ४, १—
पत्र १८८, विपा १, १, उव, सुपा ११०,
सण, प्रासू १२२) । २ प्रकर्ष, 'चयविवाग-
परिणामा' (आ ४, ४ टी—पत्र २८३) ।
३ पाककाल, 'ज से पुणो होइ दुह विवागे'
(उत ३२, ३३) । °विजय पुन [°विचय]
धर्मध्यान का एक भेद, कर्म-फल का अनु-
चिन्तन (आ ४, ४—पत्र १८८) । 'सुय
न [°श्रुत] ग्यारहवाँ जेन अङ्ग-प्रथ (सम
१, विपा १, १, आप) ।

विवागि वि [विपाकिन्] विपाकवाला (अष्क
११३) ।

विवाद् } पु [विवाद] कगड़ा, तकरार, वाक्-
विवाय } कलह, जबानी सडाई (उवा, उव,
स ३८५, सुपा २८२, ३६१) ।

विवाय सक [वि + पादय्] मार डालना ।
विवाएमि (विसे २३८५) । वक्क विवाएत,
विवायत (पउम ५७, ३१, २७, ३७) ।

विवाय देखो विवाग (सुर १२, १३६, स
२७५, ३२१, स ११८, सण) ।

'सव्व चिय सुहइक्ख

पुव्वज्जियसुकयदुक्कयविवाया ।

जायइ जियाए ज ता

को खेओ सकयउवभोगे'

(उप ७२८ टी) ।

विवायण वि [विवादन] विवाद-कर्ता, 'ते
दोवि विवायणु व्व रायकुले' (धर्मवि २०) ।

विवाविड न [दे] अतिशय गौरव (संति
४७) ।

विवाह सक [वि + वाहय्] लगन करना,
शादी करना । विवाहेमो (कुप्र १३१) ।

विवाह देखो विआह = विवाह (उवा, स्वप्न
५१, सम १, ८८) । °गणय पु [°गणरु]
ज्योतिषो, जोशी (दे ६, १११) । °जत्र
पुं [°यत्त] विवाह-उत्सव (मोह ४४) ।

विवाह देखो विआह = विवाध (सम १,
८८) ।

विवाह° देखो विआह° = व्याख्या (सम १,
८८) ।

विवाहाचिय वि [विवाहित] जिसकी शादी
कराई गई हो वह (महा) ।

विवाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी
हुई हो वह (महा, नण) ।

विविइसा खी [विविदिपा] जानने की इच्छा,
जिज्ञासा (अष्क ६६) ।

विविक्र देखो निवित्त (सूअ १, १, २, १७) ।

विचिच सक [वि + चिय्] धक्क करना,
अलग करना । सक विविचिता (सूअ ३,
८, १०) ।

विचिण न [विचिण] जगल, वन (गउड,
नाट—चैत ७२) ।

विवित्त वि [विचिक्त] १ रहित, यांचित ।
२ धुयगभूत (दस ८, ५३, भग ६, ३३,
उत २६, ३१, उव) । ३ विविध, अनिश्चित;
'भासवेहि विविचेहि तिप्पमाणो हियाअए ।

गंवेहि विविचेहि मादकालस्स पाएए'
(माचा १, ८, ८, ६, १०) ।

गया (भक्त १२२) । ४ उपचित, पुष्ट (से ६, ५०) । ५ नि सन, निमला हुआ ।
'जम्मुहमहहहाम्रो दुवालसगो महानई बूडा ।
ते गणहरकुलगिरियो सन्वे वदामि भावेण'
(चेइय ४) ।

वृणरु पुन [दे] वानक मच्चा (राज) ।

वृय वि [दे] बुना हुआ, 'ज न तथद्वा वृय
नय किरणिय नेय गहियमन्नेहि' (सुपा ६४३) ।
देमो वुअ = (दे) ।

वृह पुन [व्युह] १ युद्ध के लिए की जाती
नैय की रचना विशेष (पएह १, ३—पत्र
८४, श्रोप, स ६०३, कुमा) । २ समूह
(मम १०६, कुप्र ५६) ।

वे देवो वइ = वे (प्राक ८०, राज) ।

वे प्रक [वि + इ] नष्ट होना । वइ (विसे
१७६४) ।

वे } सक [व्ये] सवरण करना । वेइ,
वेअ } वेप्र, वेप्रए (पड्) ।

वेअ सक [वेअ] १ अनुभव करना,
भोगना । २ जानना । वेअइ, वेअइ, वेअति
(मम्यत्वा ६, मग) । वरु वेअत, वेअमाण,
वेअमाण (सम्यत्त्वो ५, पउम ७५, ४५,
सुपा २८३, शाया १, १—पत्र २६ श्रोप,
पत्र ५, १३२, सुपा ३६६) । वरु
वेअजमाण (मग, पएह १, ३—पत्र ५५) ।
सरु वेअउत्ता (सूप्र १, ६, २७) । कृ वेअ
वेअअव, वेअअव (ठा २, १—पत्र ४७,
रथण २८, नुन ६, १, सुपा ६१६, महा) ।
देता वेअ = (वेअ), वेअणिज्ज, वेअणिय ।

वेअ प्रक [वि + पज्] विशेष कापना ।
वेअर (एदि ८२ टी) । वउ वेअत (ठा ७—
पत्र ३८३) ।

वेअ मर [वेप्] तापना । वरु वेअमाण
(गा ३१२ म) ।

वेअ पु [वेअ] १ शास्त्र-विशेष, शास्त्र-वेद आदि
प्रथ (विपा १, ५ टी—पत्र ६०, पाप्र,
उर) । २ शास्त्र-विषय, मोहनीय कर्म का
एक भेद, जिसके अर्थ में मनुष्य ही इच्छा
करता है (कम्म १, २२, उअ पु ३५०) ।
३ शास्त्र-विषय आदि के अर्थ में (पात्रा १, ३,
१, ०) । ४ शिप, उभारार (मग) । ५ वि
८०३

[वत्] वेदो का जानकार (आचा १,
३, १, २) । ०वि, ०विड वि [विद्] वही
अर्थ (पि ४१३, आ २३) । ०वत्त न
[०व्यक्त] चैत्य-विशेष (आचा २, १५,
३५) । ०वत्त न [०वर्त] देखो ०वत्त
(आचा २, १५, ५) ।

वेअ न [वेअ] कर्म-विशेष, सुख तथा दुःख
का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ३) ।

वेअ पु [वेग] शीघ्र गति, दौड, तेजी (पाप्र,
से ५, ४३, कुमा महा, पउम ६३, ३६) ।
२ प्रवाह । ३ रेतस् । ४ मूत्र आदि नि सारण-
यन्त्र । ५ सस्कार-विशेष (प्राक ४१) । देखो
वेग ।

वेअत पु [वेदान्त] दर्शन-विशेष, उपनिषद्
का विचार करनेवाला दर्शन (अचु १) ।

वेअग वि [वेदक] १ भोगनेवाला, अनुभव
करनेवाला (सम्यक्त्वो १२, सबोध ३३,
श्रावक ३०६) । २ न सम्यक्त्व का एक भेद
(कम्म ३, १६) । ३ वि सम्यक्त्व-विशेष
वाला जीव (कम्म ४, १३, २२) । छहिय
वि [छिन्नवेदक] जिसका पुरुष चिह्न आदि
काटा गया हो वह (सूप्र २, २, ६३) ।

वेअच्छ न [वेअक्ष] १ उत्तरासग, छाती
में यज्ञोपवीत की तरह पहना जाता वस्त्र,
माला आदि । २ वन्ध विशेष, मकट-वन्ध ।
३ कन्धे के नीचे लटकना (शाया १, ८—
पत्र १०३) ।

वेअड सक [खच्] जडना । वेअडइ (हे
४, ८६, पड्) ।

वेअडिअ वि [खचित] जडा हुआ, जडाऊ
(कुमा, पाप्र, भवि) ।

वेअडिअ वि [दे] प्रत्युत्पत्, फिर से बोया हुआ
(दे ७, ७७) ।

वेअडिअ पु [दे] वैरुटिक] मोती वेचनेवाला
शिली, जाहरी (कप्पू) ।

वेअट्टि देवो विअड्ठि (भाप) ।

वेअड्ड न [दे] नल्लातक, निलावा (दे
७, ६६) ।

वेअड्ड पु [वताह्य] पर्यंत विशेष (सुर ६,
१७, सुपा ६२६, महा, भवि) ।

वेअड्ड न [वैदग्ध्य] विदग्धता, विच-
क्षणता (सुपा ६२६) ।

वेअण न [वेतन] मजूरी का मूल्य, तनखाह
(पाप्र, विपा १, ३—पत्र ४२, उअ पु
३६८) ।

वेअण न [वेपन] १ कम्प, कांपना (चेइय
४३५, नाट—उत्तर ६१) । २ वि. कांपने-
वाला (चेइय ४३५) ।

वेअण न [वेदन] अनुभव, भोग (आचा,
कम्म २, १३) ।

वेअणा देखो विअणा (उवा, हे १, १४६,
प्रासु १०४, १३३, १७४) ।

वेअणिज्ज १ वि [वेदनीय] १ भोगने योग्य ।
वेअणिय २ न. कर्म-विशेष, सुख-दुःख
आदि का कारण-भूत कर्म (प्रासु, ठा २,
४, कप्प, कम्म १, १२) ।

वेअय देखो वेअग (विसे ५२८) ।

वेअरणी स्त्री [वैतरणी] १ नरक नदी
(कुप्र ४३२, उअ) । २ परमाधामिक देवों की
एक जाति, जो वैतरणी की निकुर्वणा करके
उसमें नरक-जीवों को डालता है (सम २६) ।
३ विद्या-विशेष (भावम) ।

वेअल्ल देखो वेइल्ल = विचकिल, 'वियल्लफुल्ल-
नियरच्छलेण हसइव्व गिम्हरिऊ' (धर्मवि
२०) ।

वेअल्ल वि [दे] १ मृदु, कोमल (दे ७,
७५) । २ न असात्म्य (दे ७, ७५, पाप्र) ।

वेअल्ल न [वैकल्य] विकलता, व्याकुलता
(गउड) ।

वेअव्व देखो वेअ = वेदय् ।

वेअस पु [वेतस] वृक्ष-विशेष, वेंत का पेड़
(हे १, २०७, पड्, गा ६४५) ।

वेआगरण वि [वैयाकरण] व्याकरण-सवधो,
सदेह-निराकरण से सम्बन्ध रखनेवाला
(पचभा) ।

वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना ।
वेआरड (भवि) । कर्म. वेआरिजसि (गा ६०६) ।
हेऊ वेआरिड (गा २८६, वज्जा ११८) ।

वेआरणिय वि [वेदारणिक] विदारण-
सम्बन्धी, विदारण में उत्पन्न (ठा २, १—
पत्र ४०) ।

विसंधि पुं [विसन्धि] ? एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)।
 २ वि वन्धन रहित (राज)। 'कल्प, 'कापेह्य पुं [कल्प] एक महाग्रह (सुख २०)।

विसनिचिट्ट न [विसनिचिट्ट] विविध रथ्या, अनेक महत्ता (श्रीप)।

विसंभ देखो वीसभ (महा)।

विसभणया देखो विस्सभणया (आचा १, ८, ६, ४)।

विसभोइय वि [विसभोगिक] जिसके साथ भोजन आदि का व्यवहार न किया जाय वह, मंडली-बाह्य, समाज-बाह्य (ठा ५, १—पत्र ३००)।

विसभोग पु [विसभोग] साथ बैठकर भोजन आदि का अव्यवहार (ठा ३, ३)।

विसभोगिय देखो विसभोइय (ठा ३, ३—पत्र १३६)।

विसवइय वि [विसवडित] ? सवृत रहित, अप्रमाणित (पाम्न. स ५७६)। २ विघटित, वियुक्त (से ११, ३६)।

विसवय अक [विसं + वड्] ? अप्रमाणित होना, असत्य ठहरना, सवृत से सिद्ध न होना। २ विघटित होना, अलग होना। ३ विपरीत होना, अन्यथा होना। विसवयइ, विसवयति (हे ४, १२६, उव), 'सो तारिसो धम्मो नियमेण फले विसवयइ' (स ६४८, ७१६), 'वरिएण कह विसवयति' (मन २६), विसवएजा (महानि ४)। वड् विसवयत (उव, उप ७६८ टी, धर्मस ८८३)।

विसवयण न [विसवदन] विसवाद, सवृत का अभाव (उप पृ २६८)।

विसवाइ वि [विसवादिम्] ? विघटित होने-वाला, विच्छिन्न होनेवाला (कुमा ६, ८६)। २ अप्रमाणित होनेवाला, सवृत से सिद्ध नहीं होनेवाला, असत्य ठहरनेवाला (कुप्र २६४, सम्मत १२३)।

विसवाइय वि [विसवादित] विसवाद-युक्त (दे १, ११४, से ३, ३०)।

विसवाद देखो विसवाय = विसवाद (धर्मस १४८)।

विसवादण देखो विसवायण (उत्त २६, ४८)।

विसवादणा देखो विसवायणा (ठा ४, १—पत्र १६६)।

विसवाय वि [दे] मलिन, मैला (दे ७, ७२)।

विसवाय पु [विसवाद] ? सवृत का अभाव, विरुद्ध सवृत, विपरीत प्रमाण, 'अएणोएण-विसवापो' (सबोध १७, सुपा ६०८)। २ व्याघात (गा ६१६)। ३ विचलता (मे ३, ३०)।

विसवायग वि [विसवादक] ? सवृत रहित, प्रमाण-रहित। २ ठगनेवाला, वचक (सुपा ६०८)।

विसवायण न [विसवादन] नीचे देखो (उत्त २६, ४८, सुख २६, ४८)।

विसवायणा वी [विसवादना] ? असत्य कथन। २ वचना, ठगाई (ठा ४, १—पत्र २६६)।

विससरिय वि [विससत्] उठ गया हुआ, 'पहायसमए य विससरिएसु थाएणसु' (स ५३७)।

विसहणा देखो विस्सभणया (आचा)।

विसकळ वि [विशकळ] नीचे देखो (राज)।

विसकळिय वि [विशकळित] टुकड़ा-टुकड़ा किया हुआ, खरिडत (आधम)।

विसग्ग पु [विसर्ग] ? निगम, त्याग, 'सिमि-एवि सुरयसगमकिरियासजणियवजणविसग्गो' (विसे २२८)। २ विसर्जन, छुटकारा, छोड़ देना (पि २१५)। ३ अक्षर-विशेष, विसर्ज-नीय वर्ण (पिग)।

विसज्ज सक [वि + सज्, सर्जय] ? विदा करना, भेजना। २ त्यागना। विसज्जेह (महा)। वड् विसज्जिऊण, विसज्जिअ (महा, अमि ४६)। हेऊ विसज्जिडु (शो) (अमि ६०)। कू विसज्जिदव्व (शो) (अमि ५०)।

विसज्जणा वी [विसर्जना] विदाई (वच ४)।

विसज्जिअ वि [विसृष्ट, विसर्जित] ? विदा किया हुआ, भेजा हुआ (श्रीप; अमि ११६,

महा, सुपा १५०, ३५७)। २ त्यक्त, 'जीवेण जाणिए उ विसज्जियाणिए जाईसएसु देहाणिए' (उव)।

विसट्ट अक [दल्] फटना, टूटना, टुकड़े टुकड़े होना। विसट्टइ (हे ४, १७६, पड्) विसट्टति (गउड), 'तस्स विसट्टइ हिमय' (कुमा)। वड् विसट्टत (स ५७६)।

विसट्ट अक [वि + कस] विकसन, खिलना, फूलना। विसट्टइ (आऊ ७६), विसट्टति (वजा १३८)। वड् विसट्टत, विसट्टमाण (वजा ६०, ठा ४, ४—पत्र २६४)।

विसट्ट सक [वि + कासय] निकलित करना, फूलाना, प्रफुल्ल करना। विसट्टइ (घाला १५३)।

विसट्ट अक [पत्] गिरना, स्खलित होना। विसट्टति (सुख २, २६)।

विसट्ट वि [दे] ? विघटित, विरहित (पाम्न गउड १००६)। २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला हुआ (आऊ ७७, गउड ६६७, ८०५, कुमा, सुर ३, ४२, भत्त ३०)। ३ दलित, विशीर्ण, खरिडत, जिसका टुकड़ा-टुकड़ा हुआ हो वड् (से ६, ३०, गउड ५५६, मवि)। ४ उल्लित (गउड ७)।

विसट्टण न [विकसन] विकास, प्रफुल्लता, 'देव। पणयजएकल्लाएकडुडुविसट्टणुगतमि-हरएणारिणो' (धर्मा ५)।

विसड } देखो विसम (पड्, हे १, २५१-
 विसड } कुमा, दे ७, ६२), 'ढेएण वहा
 विसडा, विसडा जह सफलिया जाया' (उव)।

विसड वि [दे] ? नीराग, राग रहित। २ नीरोग, रोग-रहित (दे ७, ६२)। ३ विपाड, सहन किया हुआ (उव)। ४ विशीर्ण, टुकड़े टुकड़े किया हुआ (से ६, ६६)। ५ आरुज, व्याकुल (से ११, ८६)।

विसड वि [विशठ] ? अत्यंत दनी, प्रतिशय मायावी, 'देवेहि पाडिदूरं कि व कय एव विसडेहि' (पउम १०२, ५२)। २ पु. एफ थेट्टि-पुन (सुपा ५५०)।

विसण देवा वसण = वुपण (दे ६, ६२)।

विसण न [विशान] प्रदेय (राज)।

वेकुठ पु [वेकुण्ठ] १ विष्णु, नारायण । २ इन्द्र, देवाधीश । ३ गण्ड पक्षी । ४ अर्जक वृक्ष, सफेद बबरी का गाछ । ५ लोक-विशेष, विष्णु का घाम (हे १, १६६) । ६ पुन मयुरा का एक वैष्णव तीर्थ (ती ७) ।
वेग देखो वेअ = वेग (उवा, कण्, कुमा) ।
'वई व्री [वती] एक नदी का नाम (ती १५) ।
'वत वि [वन] वेगवाला (सुर २, १६७) ।

वेगन्ध देखो वेअच्छ (उवा) ।
वेगच्छया } स्त्री [वैकृश्रिना, °क्षा] कक्षा
वेगच्छी } के पाम पहना जाता बल, उत्तरासग (पव ६२), 'ऋयतिलश्रो वेगच्छि श्राणावत्रद्वारणरुव' (सवोध ६) ।

वेगड खीन [डे] मोत-विशेष, एक तरह का जहाज, 'चउसद्वी वेगडाए' (सिरि ३८२) ।
वेगर पु [दे] द्राक्षा, लोण आदि से मिश्रित चीनी आदि (उर ५, ६) ।

वेगुत्र देतो वइगुण (धर्मस ८८४, सुपा २६०) ।

वेग देतो विअग्ग (प्राञ्च ३०) ।

वेग देतो वग (भरि) ।

वेगल वि [दे] दूर-वर्ती, गुजराती में 'वेगळ' (हे ६, ३७०) ।

वेचिच देतो वइचिच (भाम ३०, अण्ठ ६६) ।

वेश देतो विच = वि + अच् । वेशर (हे ४, ११६) ।

वेच्र° देगा विच्र = विच्र ।

वेच्र्जा देतो वगच्र्जा । 'सुत्त न [सूत्र] उरगतो तो तरट पट्ठी जाती नवनी (भग ६, ३३ दो—७७, राय) ।

वेचयन पुन [वेचयन्] १ एक अनुत्तर देव-निमा (गा ५०, श्रीप, अनु) । २-० जन्-दोष, नरपण मुद्र, पातकी मरुड, कालोद मुद्र, धृतराज जीर तथा पुष्करोद समुद्र का अण्डाकार (ठा ६, २—पत्र २२५, जीव ३, २—पत्र २२०, ठा ६ २—पत्र २२६, शंभ ३, २—पत्र ३०७ ३२६, ३३१, ३३३) । ३-३ पु अण्डोप तस्य मुद्र का ३ दक्षिण भाग में स्थिताना देव (ठा

४, २—पत्र २२५, जीव ३, २—पत्र २६०, ठा ४, २—पत्र २२६, जीव ३, २—पत्र ३२७, ३२६, ३३१, ३४७) । १४ एक अनुत्तर देवविमान का निवासी देव (सम ५६) । १५ जवू-मन्दर के उत्तर रुचक पर्वत का एक शिखर, 'विजए य वि(?) वे जयते' (ठा ८—पत्र ४३६) । १६ वि प्रधान, श्रेष्ठ (सूत्र १, ६, २०) ।

वेजयती स्त्री [वैजयन्ती] १ ध्वजा, पताका (सम १३७, सूत्र १, ६, १०, सुर १, ७०, कुमा) । २ पशु बलदेव की माता का नाम (सम १५२) । ३ अगारक आदि महाग्रहों की एक-एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४ पूर्व रुचक पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६) । ५ विजय-विशेष की राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०) । ६ एक विद्याधर-नगरी (सुर ५, २०४) । ७ रामचन्द्रजी की एक सभा (पउम ८०, ३) । ८ भगवान् पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका (सम १५१) । ९ उत्तर अजनगिरि की दक्षिण दिशा में स्थित एक पुष्करिणी (ठा ४, २—पत्र २३०) । १० पक्ष की आठवीं रात्रि का नाम, 'विजया य विजयता (? वेजयती)' (सुज १०, १४) । ११ भगवान् कुन्धुनाथ की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) ।

वेज वि [वेद्य] भोगने योग्य, अनुभव करने योग्य (सवोध ३३) ।

वेज पु [वेद्य] १ चिकित्सक, हकीम (गा २३७, उवा) । २ वृक्ष-विशेष । ३ वि परिदल, मिडान (हे १, १४८, २, २४) । ४ सत्य न [शान्ति] चिन्तित्वा-शास्त्र (स १७) ।

वेजग } न [वद्यक] १ चिकित्सा शास्त्र (श्रोष
वेजय } ६२२ टी, स ७११) । २ वेद्य-सम्बन्धी क्रिया, वेद्य-कर्म (अणु २३६, कुप्र २८१) ।

वेजनि [वेद्य] वाचने योग्य (नाट—साहित्य १५८) ।

वेजण देखो वेजग (नाट—नालती ११६) ।

वेजणग पु [वेजणम्] १ सिर पर बांधी जाती एक तरह की पगड़ी । २ कान का एक प्रान्तरण (रात्र) ।

वेड्या देखो विट्टा (सुर १६, १७५) ।
वेट्टि देखो विट्टि, 'रायवेट्टि व मर्नता' (उत्त २७, १३, प्राञ्च ५) ।

वेट्टि (शौ) देखो वेट्टिअ (नाट—मृच्छ ६२) ।

वेड [दे] देखो वेड (दे ६, ६५, कुमा) ।

वेडइअ पु [दे] वाणिज्यक, व्यापारी (दे ७, ७८) ।

वेडवग देखो विडवग, 'जह वेडवगलिगे' (सवोध १२) ।

वेडस पु [वेतस] वृक्ष-विशेष, बँत का गाछ (पाम्, सम १५२, कण्) ।

वेडिअ पु [दे] मणिकार, जीहरी (दे ७, ७७) ।

वेडिकिलि वि [दे] सकट, सकरा, कमचौडा (दे ७, ७८) ।

वेडिस देखो वेडस (प्राप्र. हे १, ४६, २०७, कुमा, गा ७६०) ।

वेडुवक } वि [दे] नृपादि कुल में उत्पन्न
वेडुवग } (आव० परि नि० गा० ७६ आव० दीपिका भा० २ पत्र, ७०, २) ।

वेडुज्ज } देखो वेरुलिअ (हे २, १३३-
वेडुरिअ } पाम्, नाट—मृच्छ १३६) ।

वेडुल्ल वि [दे] गवित, अभिमानी (दे ७, ११) ।

वेडुल्ल देखो वेड = वेड्ट । वेडुल्ल (प्राप्र) ।

वेडुल्ल पु [वेट्ट] छन्द-विशेष (अजि ६) ।

वेड सक [वेट्ट] लपेटना । वेडइ, वेडेइ (हे ४, २२१, उवा) । कर्म वेडिज्जइ (हे ४, २२१) । वक्क वेडत, वेडेमाण (पउम ९०, २१, एया १, ६) । कवक्क वेडिज्ज-माण (सुपा ६४) । सक्क वेडित्ता, वेडेत्ता, वेडिउ, वेडेउ (पि ३०४, महा) । प्रयो. वेडावेइ (पि ३०४) ।

वेड पु [वेट्ट] १ छन्द विशेष (सम १०६, अणु २३३, एदि २०६) । २ वेट्टन, लपेटन (गा ६६, २२१, से ६, १३) । ३ एक वन्तु-विषयक वाक्य-समूह, वण्णन-गन्ध (एया १, १६—पत्र २१८, १, १७—पत्र २२८, अनु) ।

'वेड देखो पीड (गउड) ।

विसाइ वि [विपादिन्] पिपाद-युक्त, शोक
ग्रस्त (सबोध ३६) ।

विसाण न [विपाण] १ हाथी का दाँत
(पएह १, १—पत्र ८, अणु २१२) । २
शृंग, सींग (सुख ६, १, पात्र, औप) । ३
सूअर का दाँत (उवा) । ४ पु व. देश-विशेष
(पउम ६८, ६५) ।

विसाण सक [विशाणय्] विसना, शाण
पर चढ़ाना । कर्म विसाणीअदि (शौ)
(नाट—मृच्छ १३६) ।

विसाणि वि [विपाणिन्] १ सींगवाला ।
२ पु. हाथी, हस्ती । ३ शृ गाटक, सिधाडा ।
४ ऋषभ नामक औषध (अणु १४२) ।

विसाय सक [वि + स्वाद्य्] विशेष चखना,
खाना । वक्त्र विसाएमाण (णाय १, १—
पत्र ३७, कण्) ।

विसाय पु [विपाद्] खेद, शोक, दिलगोरी,
अफसोस (उव, गउड, सुपा १०४, हे १,
१५५) । २ वत वि [वत्] खिन्न, शोक-
ग्रस्त (आ १४) ।

विसाय वि [विसात्] १ सुख-रहित (विदे
१३६) । २ पुन एक देव-विमान (सम ३८) ।

विसाय वि [विस्वाद] स्वाद-रहित, 'आम-
यकारि विसाय मिच्छत्तं कयसण व जं भुत्त'
(विदे १३६) ।

विसार सक [वि + सारय्] फेलाना ।
वक्त्र विसारत (उत्त २२, ३४) ।

विसार पु [दे] सैन्य, सेना (पढ) ।

विसार वि [विसार] सार-रहित, निस्सार
(गउड) ।

विसारण न [विशारण] खएडन (पिंड
५६०) ।

विसारणिय वि [विस्मारणि] स्मारणा-
रहित, जिसको याद न दिलाया गया हो वह
(काल) ।

विसारय वि [दे] घुष्ट, ढीठ, साहसी (दे ७,
६६) ।

विमारय वि [विशारद्] विद्वान्, परिडत्,
दक्ष (पएह, १, ३—पत्र ५३, अग, ओप,
सुर १, १३, भात्म १६) ।

विसारि वि [विसारिन्] कैलनेवाला, व्यापक
(गउड) । स्त्री ०णी (कण्) ।

विसारि पुं [दे] कमलासन, ब्रह्मा (दे ७,
६२) ।

विसाल वि [विशाल] १ विस्तृत, बडा,
विस्तोर्ण, चौडा (पात्र, सुर २, ११६, प्रति
१०) । २ पु एक ग्रह-देवता, अठ्ठासी महा-
ग्रहो मे एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र
७८) । ३ एक इन्द्र, क्रन्दित-निकाय का
उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र
८५) । ४ पुन देव-विमान विशेष (सम ३५,
देवेन्द्र १३६, पव १६४) । ५ न. एक विद्या-
धर-नगर (इक) ।

विसालय पु [दे] जलधि, समुद्र (दे ७,
७१) ।

विसाला स्त्री [विशाला] १ एक नगरी का
नाम, उज्जयिनी, उज्जैन (सुपा १०३, उप
६८८) । २ भगवान् पारशनाथ की बीसा-
शिविका (विचार १२६) । ३ जवूद्वेष
विशेष, जिससे यह जवूद्वेष कहलाता है ।
४ राजधानी-विशेष (इक) । ५ भगवान्
महावीर की माता का नाम (सुअ १, २,
३, २२) । ६ एक पुष्करिणी (राज) ।

विसालिस देखो विसारिस (उत्त ३, १४) ।

विसासन वि [विशासन] विघातक, विना
शक, 'कुसुमयविसासन' (सम्म १) ।

विसासिअ वि [विशासित] १ मारित,
हिसित, जिसका वध किया हो वह । २ विशेष
रूप से धरित । ३ विश्लेषित, विद्युक्त किया
हुआ । ४ मार भगाया हुआ (से ८, ६३) ।

विसाह पुं [विशास] स्कन्द, कार्तिकेय
(पात्र) ।

विसाहा स्त्री [विशाहा] १ नक्षत्र-विशेष
(सम १०) । २ व्याक्ति-नाचक नाम, एक स्त्री
का नाम (वज्जा १२२) । ३ एक विद्याधर-
कन्या (महा) ।

विसाहिअ वि [विसाधित] १ सिद्ध किया
गया । २ न ससिद्धि, 'खगविसाहित् जहि
सहह पिय तहि देसहि जाहु' (हे ४, ३८६,
४११) ।

विसाही स्त्री [वैशाही] १ वैशाख मास की
पूर्णिमा । २ वैशाख मास को अभावत
(सुज्ज १०, ६) ।

विष्टि स्त्री [दे] रुद्रि शरी, गज पर्याण (दे
७, ६१) ।

विसि देखो विसि (हे १, १२८, प्राप्र) ।

विसिज्जमाण देखो विस = वि-शू ।

विसिद्ध वि [विशिष्ट] १ प्रधान, मुख्य (सुष
१, ६, ७, पएह २, १—पत्र ६६) । २
विशेष-युक्त (महा) । ३ विशेष शिष्ट, सुसम्भ
(वजा १६०) । ४ युक्त, सहित (पएण
२३—पत्र ६७१) । ५ व्यतिरिक्त, भिन्न,
विलक्षण (वित्ते) । ६ पु. एक इन्द्र, द्वीपकुमार-
देवो का उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—
पत्र ८४) । ७ न लगातार छ दिनों का
उपवास (सबोध ५८) । ० दिष्टि स्त्री [दिष्टि]
अहिंसा (पएह २, १) ।

विसिद्धि स्त्री [विसृष्टि] विपरीत क्रम (वित्ति
८७८) ।

विसिण वि [दे] रोमश, प्रचुर रोमवाला (दे
७, ६४) ।

विसिस सक [वि + शिप्] विशेष-युक्त
करना । कर्म किरिया विसि(ति)सएणुण
नाणाठ, सुए जमो भणिएअ' (अज्जक ५८,
५६) ।

विसिह पु [विशिर] १ बाण, तोर (पात्र,
पउम ८, १००, सुपा २२, कियत १३) ।
२ वि शिखा रहित (गउड ५३६) ।

विसी देखो विसी (हे १, १२८, प्राप्र) ।

विसी स्त्री [विशति] वीम, वीस का समूह
'केत्ती(ति)आओ भाअनदाए विसीओ' (हात्त
१३६) ।

विसीअ अक [वि + सद्] १ खेद करना ।
२ निमग्न होना, डूबना । विसीअ विसीअदि,
विसीअए, विसीअह (सुअ १, ३, ६, १, १,
३, ४, ५, ठा ६, ४—पत्र २७८, उर) । ४.
विसीयत (पि ३६७) ।

विसीइय वि [विशीर्ण] १ जीर्ण, पुष्टि ।
२ न दूटना, जर्जरित होना, 'सथोदि विहीय
पिव विसीइय सवअअगेहि' (सुर १२, १६६) ।
विसीरत देवा विस = वि-शू ।

वेमय सक [भञ्ज] भांगना, तोडना ।
वेमयइ (हे ४, १०६, पङ् ।

वेमाउअ } वि [वैमातृक] विमाता की
वेमाउग } सतान (सम्मत १७१, मोह
८८) ।

वेमाणि पृथी [विमानिन] विमान-वासी
देवता, एक उत्तम देव जाति (दे २) । स्त्री
णिणी (पण १७—पत्र ५००, पचा २,
१८) ।

वेमाणिअ पु [वैमानिक] एक उत्तम देव-
जाति विमानवासी देवता (भग, श्रौप, पणह
१, ५—पत्र ६३, जी २४) ।

वेमाया स्त्री [विमात्रा] अनियत परिमाण
(भग १, १० टी) ।

वेम्मि क्रि [वच्चि] मैं कहता हूँ (चंड) ।

वेयड पु [वेतण्ड] हस्ती, हाथी (स ६३०,
७३५) । देखो वेड ।

वेयावच } न [वैयावृत्त्य, वैयापूर्य]
वेयावडिय } सेवा, शुधुपा (उव, कस, णाया
१, ५, श्रौप, श्रौषभा ३२१, आचा, णाया
१, १—पत्र ७५, धमंस ६६५, श्रु ५३) ।

वेर न [वर] दुरमनाई, शत्रुता (दे १, १५२,
अत १२, प्रासू १२३) ।

वेर न [द्वार] दरवाजा (पङ् ।

वेरग न [वेराग्य] विरागता, उदासीनता
(उव, रयण ३०, सुपा १७३, प्रासू ११६) ।

वेरणिग नि [वेराग्यिक] वेराग्य-युक्त,
विरागा (उव, स १३५) ।

वेरज न [वेराज] ? वेरि-राज्य, विरुद्ध
राज्य (पुन २, ३५, कस) । २ जहाँ पर
राजा विद्यमान न हो वह राज्य । ३ जहाँ
पर प्रयाग आदि राजा से निरक्त रहते हा
२ राज्य (पत्र, वृह १) ।

वेरत्तिय नि [वेरान्त्रिक] रात्रि के तृतीय पहर
ता समय (उत २६, २०, प्राव ६६२) ।

वेरमाण । [विरमण] विराम, निवृत्ति (नम
१० न. १) ।

वेराउ पु [वेराउ] भारतीय दश-विशेष, धन-
र न. १ न. १ नारा मार ता प्रदेश (गति) ।

वेराय म. [विराग] वेराग्य, उदासीनता
न. १ ।

वेरि } देखो वडरि (गड, कुमा, पि
वेरिअ } ६१) ।

वेरिज्ज वि [दे] ? असहाय, एकाकी । २
न सहायता, मदद (दे ७, ७६) ।

वेरुलिअ पुन [वेडूर्य] ? रत्न की एक जाति,
'सुचिर पि अचछमाणो वेरुलिओ काचमणीअ
उम्मीसो' (प्रासू ३२, पाअ), 'वेरुलिअ' (हे
२, १३३, कुमा) । २ विमानावास-विशेष
(देवेन्द्र १३२) । ३ शक्र आदि इन्द्रो का एक
आभाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । ४ महा-
हिमवत पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३—
पत्र ७०, ठा ८—पत्र ४३६) । ५ रुचक
पर्वत का एक शिखर (ठा ८—पत्र ४३६) ।

६ वि. वैडूर्य रत्नवाला (जीव ३, ४, राय) ।
०मय वि [०मय] वैडूर्य रत्नो का बना हुआ
(पि ७०) ।

वेरोयण देखो वडरोअण = चैरोचन (णाय
२, १—पत्र २४७) ।

वेल न [दे] दन्त-मास, दात के मूल का मास
(दे ७, ७४) ।

वेलधर पु [वेलधर] एक देव-जाति, नाग-
राज-तिसोप (सम ३३) । २ पर्वत-विशेष ।
३ न नगर-विशेष (पउम ५४, ३६) ।

वेलधर पु [वैलधर] वेलधर-सव-धी (पउम
५५, १७) ।

वेलव पु [वेलम्ब] ? वायुकुमार नामक देवो
के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र
८५, इक) । २ पाताल-कलश का अग्रिष्ठाता
देव-विशेष (ठा ४, १—पत्र १६८, ४, २—
पत्र २२६) ।

वेलव पु [दे विडम्ब] ? विडम्बना (दे
७, ७५, गड) । २ वि पिडम्बना कारक
(पणह २, २—पत्र ११८) ।

वेलवग पु [विडम्बक] ? विडम्बक, मसन्वरा
(श्रौप, णाया ८, १ टी—पत्र २, कण्) ।
२ वि पिडम्बना करनेवाला (पुष्क २२६) ।

वेलम्ब न [वैलम्ब] लज्जा, शरम (गड) ।

वेलग न [दे व्रीडनक] ? लज्जा, शरम
(२७, ६५ टी) २ पु साहित्य प्रसिद्ध रस-
नियोग, लज्जा-जनक वस्तु व दर्शन आदि से
उत्पन्न होनेवाला एक रस (असू १३५) ।

वेलव सक [उपा + लम्] ? उपालम्भ
देना, उलाहना देना । २ कपाना । ३ व्याकुल
करना । ४ व्यावृत्त करना, हटाना । वेलवइ
(हे ४, १५६, षड्) । वक्क वेलवत (से २,
८) । कवक्क. वेलविज्जत (से १०, ६८) ।
क वेलवणिज्ज (कुमा) ।

वेलव सक [वञ्च] ? ठगना २ पीडा
करना । वेलवइ (हे ४, ६३) । कर्म वेल-
विज्जति (सुपा ४८२, गड) ।

वेलविअ वि [वञ्चित] ? प्रतारित, ठगा
हुआ (पाअ, वज्जा १५२, विवे ७७, वै
२६) । २ पीडित हैरान किया हुआ (खा
११) ।

वैला स्त्री [दे] दन्त-ग्राम, दाँत के मूल का
मास (दे ७, ७४) ।

वैला स्त्री [वेला] ? समय, अक्षर, काल
(पाअ, कण्) । २ उवार, समुद्र के पानी की
वृद्धि (पणह १, ३—पत्र ५५) । ३ समुद्र
का किनारा (से १, ६२, श्रौप, गड) । ४
मर्यादा (सुअ १, ६, २६) । ५ वार, दफा
(पचा १२, २६) । ०उल न [कुल] बन्दर,
जहाजों के ठहरने का स्थान (सुर १३, ३०,
उप ५६७ टी) । ०वासि पुं [वासिन्] सपुत्र-
नट के समीप रहनेवाला वानप्रस्थ
(श्रौप) ।

वैलाइअ वि [दे] मुडु, कोमल । २ वीन,
गरीब (दे ७, ६६) ।

वैलाव (अप) सक [वि + लम्बय्] बेरी
करना, विलम्ब करना । वेलावसि (पिंग) ।

वैलिअ वि [वेलावत्] वेला-युक्त (कुमा) ।

वैली स्त्री [दे] ? लता-विशेष, निद्राकरी लता
(दे ७, ३४) । २ घर के चार कोणों में
रखा जाता छोटा स्तम्भ (पव १३३) ।

वैलु देखो वेणु (हे १, ४, २०३) ।

वैलु पु [दे] ? चोर, तस्कर । २ मुसल (दे
७, ६४) ।

वैलुक वि [दे] विरूप, खराब, कुत्सित (दे
७, ६३) ।

वैलुग } पुन [वेणुक] ? वेल का गाछ । २
वैलुय } वेल का फल (आचा २, १, ८,
१८) । ३ वय, वस, वेलुयाणि तणाणि
व (पण १—पत्र ४३, पि २४३) । ४

विस्स देखो विस्स = विश्, 'देवीए जेण समय अहंपि अणोए विस्सामि' (सुर २, १२७)।

विस्स न [विस्स] १ कच्ची गन्ध अपक्व माम आदि की वू। २ वि कच्ची गन्धवाला (प्राप्र. अग्नि १८४)। °गधि वि [°गन्धिन्] आमगन्धि, अपक्व मास के समान गन्धवाला (अग्नि १८४)।

विस्स पुं [विस्स] १ एक नक्षत्र-देवता, उत्तराषाढा नक्षत्र का अघिष्ठाता देव (ठा २, ३—पत्र ७७, अणु १४५, सुज्ज १०, १२)। २ स सर्व, सकल, सब (विसे १६०३, सुर १२, ५६)। ३ पुन. जगत, दुनियाँ (सुपा १३६, सम्मत १६०, रभा)। °इ पुं [°जिन्] यज्ञ विशेष (प्राकृ ६५)। °कम्म पु [कर्मन्] शिल्पी-विशेष, देव-वर्धकि (स १००, कुप्र ६)। °पुर न [°पुर] नगर-विशेष (सुपा ६३५)। °भूइ पुं [°भूति] प्रथम वासुदेव का पूर्व-भवीय नाम (सम १५३, पउम २०, १७१, भत्त १३७, ती ७)। °यम्म देखो °कम्म (स ६१०)। °वाइअ पु [°वादिक्] भगवान महावीर का एक गण (ठा ६—पत्र ४५१)। °सेण पु [°सेन] १ भगवान शान्तिनाथजी का पिता, एक राजा (पम १५१, १५२)। २ अहोरात्र का एक मुहूर्त (सम ५१)। देखो वीस = विश्व।

विस्सअ (मा) देखो विम्हय = विस्सय (षड्)।

विस्सत देखो वीसत (सुपा ५८३)।

विस्सतिअ न [विश्रान्तिक] मधुरा का एक तीर्थ (ती ७)।

विस्सद सक [वि + स्यन्द्] टपकना, भरना, चूना। विस्सदति (ठा ४, ४—पत्र २७६)।

विस्सअ सक [वि + अश्म्] विश्वास करना। कृ विस्सअणिज्ज (आ १४, उपप १६)।

विस्सअ पु [विश्रम्भ] विश्वास, अडा (प्रयो ६६, महा)। °चाइ वि [°चातिन्] विश्वास-घातक (साया १, २—पत्र ७६)।

विस्सअण न [विश्रम्भण] विश्वास (मात् १६६)।

विस्संभणया वी [विश्रम्भणा] विश्वास (आचा)।

विस्सअर पु [विश्रम्भर] जन्तु-विशेष, भुजपरिसर्प की एक जाति (सुप्र २, ३, २५, श्रोष ३२३)। २ मूपक, चूहा (श्रोष ३२३)। ३ इन्द्र। ४ विष्णु, नारायण (नाट—चेत ३८)।

विस्सअरा वी [विश्रम्भरा] प्रथिवी, धरती (कुप्र २१३)।

विस्सअिय वि [विश्रब्ध] विश्वास-प्राप्त, विश्वासी (सुख १, १४)।

विस्सअिय वि [विश्रभृत्] जगत-भूरक (उत्त ३, २)।

विस्सअथ देखो वीसअथ (नाट—शकु ५३)।

विस्सअद्ध देखो वीसअद्ध (अग्नि १६३, बुद्धा २२३)।

विस्सअ अक [वि + अश्म्] थाक लेना। विस्सअइ (प्राकृ २६)। कृ विस्सअिअ (नाट—मालती ११)।

विस्सअ पु [विश्रम] विश्राम, विश्रान्ति (स्वप्न १०६)।

विस्सअिअ देखो विस्सत (सुपा ३७२)।

विस्सअर सक [वि + स्मृ] भूलना। विस्सअइ (घात्वा १५३)।

विस्सअर वि [विस्वर] खराब आवाजवाला (सम ५०, परह १, १—पत्र १८)।

विस्सअरण न [विस्मरण] विस्मृति, याद न आना (पभा २४, कुल १४)।

विस्सअरिय वि [विस्मृत्] भुला हुआ (उप पु ११३)।

विस्सअ सक [वि + अश्स्] विश्वास करना, भरोसा करना। विस्सअइ (प्राकृ २६)। वकृ विस्सअसत (आ १४)। कृ विस्सअणिज्ज (आ १४, भत्त ६६)।

विस्सअिअ वि [विश्रस्त] विश्वास-युक्त, भरोसा-पात्र (आ १४, सुपा १८३)।

विस्सअणिज्ज वि [विश्रानित] दिया हुआ, अर्पित (उप १३८ टी)।

विस्सअम देखो वीत्ताम (प्राकृ २६, नाट—शकु २७)।

विस्सअमण न [विश्रामण] चप्पी, घा-मर्दन आदि भक्ति, वैवाचित्य (ती ८)।

विस्सअमणा वी [विश्रामणा] ऊपर देखो (पत्र ३८, हित २०)।

विस्सअव देखो विसाय = वि + स्वाद्य्। कृ. विस्सअयणिज्ज (साया १, १२—पत्र १७४)।

विस्सअर सक [वि + स्मृ] भूल जाना। सक 'कोकहलपरा विस्सअरिऊण रायसाण अणणिऊण नियम्मि पविट्ठा नवार्' (महा)।

विस्सअर सक [वि + स्मारय्] विस्सअर करवाना (नाट—मालती ११७)।

विस्सअरण न [विसारण] विस्सअरण, फैलाना (पत्र ३८)।

विस्सअवसु पु [विश्रवसु] एक गन्धर्व, देव-विशेष (पउम ७२, २६)।

विस्सअस पु [विश्रवास] भरोसा, प्रतीति, श्रद्धा (सुख १, १०, सुपा ३५२, प्राप्र)।

विस्सअसिय वि [विश्रवासित] विश्वासी विश्वास कराया गया हो वह (सुपा १७७)।

विस्सअहल पु [विश्रहल] अण विग्रा न जानकार चतुर्थं छद् पुरुष (विचार ४३)।

विस्सअउ वि [विश्रुत्] प्रसिद्ध, विस्सअ (पाम्र, श्रोप, प्रासू १०७)।

विस्सअरिय देखो विसुअरिअ (उप १२७)।

विस्सअेणि } वी [विश्रेणि, °णी] ति श्रेणि,
विस्सअेणी } सीढी (आचा)।

विस्सअेसर पु [विश्रेश्वर] काशी विरनथ, काशी में स्थित महादेव की एक मूर्ति (सम्मत ७५)।

विस्सअेसिआ दलो विसोत्तिआ (ह २, ६८)।

विह सक [व्यध्] ताडना करना। यह विहमाण (उत्त २७, ३, सुस २७, ३)।

विह देखो विस = विप (आना, पि २६३)।

विह पुन [दि] १ मार्ग, रास्ता (पाम्र ०६)। २ अनेक दिनों में उल्लसनीय मार्ग (पत्र २, ३, १, ११, २, ३, १४)। ३ घाट। प्राय मार्ग (आचा २, ५, २, ७)।

विह पुन [विहायम्] प्राकार, मन्त्र (प २०, २—पत्र ७७६, दत्तवि १, २३)।

देवी विहग = विहायम्।

वेसलगा पु [वृपल] सूद्र, अघम-जातीय मनुष्य (सूत्र २, २, ५४) ।
 वेसवण पु [वैश्रवण] देखो वेसमण (हे १, १५२, चड, देवेन्द्र २७०) ।
 वेसयाडिय पु [वेशवाटिक] एक जैन मुनि-गण (कप्प) ।
 वेसवार पु [वेसवार] घनिया आदि मसाला (हुप्र ६८) ।
 देसा देखो वेस्सा (कुमा, सुर ३, ११६, सुपा २३५) ।
 वेसाणिय पु [वैशाणिक] १ एक अन्तर्द्वीप । २ अन्तर्द्वीप विशेष मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ८८—पत्र २२५) ।
 वेसानर देखो वदसानर (सट्टि ६ टी) ।
 वेसात्रण दमा वेसियायण (राज) ।
 वेसाळिअ मि [वेसाळिक] १ समुद्र मे उल्लान्त । २ निशालाख्य जाति मे उपपन्न । ३ निशाल, वडा, विस्तोर्ण, 'मच्छा वेसालिया चव' (सूत्र १, १, ३, २) । ४ पु. भगवान् ऋषभदेव (सूत्र १, २, ३, २२) । ५ भगवान् महावीर (सूत्र १, २, ३, २२, गग) ।
 वेसाला वी [वशाली] एक नगरी का नाम (हण ३३०) ।
 वेसास दोपो प्रीमास, को किर वसासु वेसामा' (यमनि ६५) ।
 वेसासज मि [वशासिक, विश्वास्य] विश्वास योग्य, विश्वासनीय, विश्वास-गान (ठा ५, ३—पत्र ३६२, विपा १, १—पत्र १५, पत्र, गान, तट्ट ३५) ।
 वेसास न्ना वदसाह (पाप्र, वन १) ।
 वेसासो वी [वेसासो] १ पंचाय मास की पण्डिता । २ पंचाय मान की प्रमापस (इक) ।
 वेसि मि [वेसि] द्वेप द्वेप तलेवाना (पउम ८, १८० मु ६, ११५) ।
 वेसिअ ता वदसिअ (दे १, १५२) ।
 वेसिअ पु [वेसि] १ वेश्य, गणिका (प्र १, ८, २०१) २ न वेसिअ शास्त्र-विद्वान् (सु १, २, ३, २६, राग) ।
 वेसिअ पु [वेसि] अघम-जातीय मनुष्य (सूत्र २, १, ६, ३) ।

वेसिअ वि [व्येपित] १ विशेष रूप से अभिलषित । २ विविध प्रकार से अभिलषित (भग ७, १—पत्र २६३) ।
 वेसिट्टु देखो वडसिट्टु (घमंस २७१) ।
 वेसिणी वी [दे] वेश्या, गणिका (गा ४७४) ।
 वेसिया देखो वेस्सा, 'कामासतो न मुण्ड गम्मागम्मपि वेसियाणुव्व' (भत्त ११३, ठा ४, ४—पत्र २७१) ।
 वेसियायण पु [वैश्यायन] एक बाल तापस (भग १५—पत्र ६६५, ६६६) ।
 वेसी वी [वैश्या] वेश्य जाति की वी (सुख ३, ४) ।
 वेसुम पु [वेश्मन्] गृह, घर (प्राक्क २८) ।
 वेस्स देखो वदस्स = वेश्य (सूत्र १, ६, २) ।
 वेस्स देखो वेस = द्वेष्य (उत्त १३, १८) ।
 वेस्स देखो वेस = वेष्प (राज) ।
 वेस्सा वी [वेदया] १ परयागना, गणिका (विसे १०३०, गा १५६, ८६०) । २ श्रोतवि विशेष, पाठ का गाल (प्राक्क २६) ।
 वेस्सासिअ देखो वेसासिअ (भग) ।
 वेह सक [प्र + ईक्ष्] देखना, प्रवलोकन करना, 'जहा सगामकालसि पिट्टतो भीरु वेहइ' (सूत्र १, ३, ३, १) ।
 वेह सक [व्यव्] वीचन, छेदना । वेहइ (पि ४८६) ।
 वेह पु [वेव] १ वेधन, छेद (सम १२५, वज्जा १४२) । २ अनुबोध, अनुगम, मिश्रण । ३ द्यूत-विशेष, एक तरह का जुआ (सूत्र १, ६, १७) । ४ अनुयाय, श्रयन्त द्वेप (परह १, ३—पत्र ४२) ।
 वेह पु [वेवस्] विधि, विधाता (सु ११, ५) ।
 वेहण न [वेवन] वेधन, छेद करना (राय १, ७, घमंसि ७१) ।
 वेहम्म देवो वदधम्म (उत्त १०३१ टी, घमंस १८५ टी) ।
 वेहल्ल पु [वेहल्ल] रागा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु १, २, निर १, १) ।

वेहव सक [वञ्च्] ठगना । वेहवइ (हे ४, ६३, षड्) ।
 वेहव न [वैभव] विभूति, ऐश्वर्य (भवि) ।
 वेहविअ पु [दे] १ अनादर, तिरस्कार । २ वि क्रोध (दे ७, ६६) ।
 वेहविअ वि [वञ्चत] प्रतारित (दे ७, ६६ टी) ।
 वेहव न [वैधव्य] १ विधवापन, रँडापा, रॉडपन (गा ६३०, हे १, १४८, गउड, सुपा १३६) ।
 वेहाणस देखो देहायस (आचा २, १०, २, ठा २, ४—पत्र ६३, सम ३३, एया १, १६—पत्र २०२, भग) ।
 वेहाणसिय वि [वैहायसिक] फाँसी आदि से लटक कर मरनेवाला (श्रौप) ।
 वेहायस वि [वैहायस] १ आकाश सम्बन्धी, आकाश मे होनेवाला । २ न. मरण-विशेष, फाँसी लगा कर मरना (पव १५७) । ३ पुं. राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु) ।
 वेहारिय वि [वैहारिक] विहार-सम्बन्धी, विहार-प्रवण (सुख २, ४५) ।
 वेहास न [विहायस्] १ आकाश, गगन (एया १, ८—पत्र १३४) । अन्तराल, बीच भाग (सूत्र १, २, १, ८) ।
 वेहास देखो वेहायस (पव १५७, अनु १) ।
 वेहिम वि [वैधिक, वेध्य] लोडने योग्य, दो टुकडे करने योग्य (दस ७, ३२) ।
 वैचठ देखो वेकुठ (समु १५०) ।
 वैभव देखो वेहव (पि १०३) ।
 वोअस देखो वोक्कस । कवक, वीयसिज्जमाण (गग) ।
 वोइय वि [व्यपेत] वज्रित, रहित (भवि) ।
 वोट देखो वित्त = वृत्त (हे १, १३६) ।
 वोक्किल वि [व्] गृह-शूर, घर मे वीर वनने-वाला, झूठा शूर (दे ७, ८०) ।
 वोक्किल न [दे] रोमन्थ, चवी हुई चीज को पुन चवाना (दे ७, ८२) ।
 वोध सक [वि + ज्ञपय] विज्ञप्ति करना । वोधइ (हे ४, ३८) । वक्क वोक्कत (कुमा) ।

विहरमाण (उत्त २३, ७, सुख २३, ७, शोध १२४, महा, भग)। सक विहरित्ता, विहरिअ (भग, नाट—वक्र १०२)। विहरित्तप, विहरित्त (भग, डा २, १—पत्र ५६, उव)। क विहरियव्व (उप १३१ टी)।

विहर सक [प्रति + ईक्ष्] प्रतीक्षा करना, बाट जोहना। विहरइ (पट्)।

विहर देखो विहार (उप ८३३ टी)।

विहरण ने [विहरण] विहार (कुप्र २२)।

विहरिअ न [दे] सुरत, समोग (दे ७, ७०)।

विहरिअ वि [विहृत] जिसने विहार किया हो वह (शोध २१०, उव, कुप्र १६६)।

विहल भक [वि + हल्] व्याकुल होना। वक्र, विहलन (स ४१५)।

विहल देखो विहड = वि + घट्। वक्र विहलत (से १४, २६)।

विहल वि [विहल] व्याकुल, ध्यप्र (हे ३, ५८, प्राक २५, पउम ८, २००, से ५, ५८, गा २८५, प्रासू ५, हास्य १४०, वज्जा २४, पट्, गउड)।

विहल देखो विअल = विकल (सखि ८)।

विहल वि [विफल] १ निष्फल, निरर्थक (गउड, सुपा ३६६)। २ असत्य, झूठा, भिच्छा मोह विहल प्रलिन असच असम्भू (पात्र)।

विहल सक [विफल] निष्फल बनाना, निरर्थक करना। विहलति (उव)।

विहलखल } वि [विहल] व्याकुल
विहलखल } शरीरनाला (काप्र १६६, स २५५, सुख १८, ३५, सुर ६, १७३; सुपा ४५७), 'विमणाविहलघना पडिया' (सुर १५, २०४)।

विहलिअ वि [विहलित] व्याकुल किया हुआ (कुपा ३, ४३; प्राप, महा)।

विहलिअ देखो विहलिअ (से ७, ४६)।

विहलिअ वि [विफलित] विफल किया हुआ (सण)।

विहल भक [वि + रु, वि + रत्] १ श्रानाज करना। २ सक विस्तार करना। विहलइ (पाला १४३)।

विहल पु [विहल] राजा श्रेणिक का एक पुत्र (पडि)।

विहव पु [विभव] समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य (पात्र, गउड, कुमा, हे ४, ६०, प्रासू ७२, ७६)।

विहवण न [विभवण] निनाश (राज)।

विहवा स्त्री [विधवा] जिसका पति मर गया हो वह स्त्री राड (श्रीप, उव, गा ५३६, स्यन ५६, सुर १, ४३)।

विहवि वि [विभविन्] संपत्ति वाली, धनाढ्य (कुमा, सुपा ४२२, गउड)।

विहव्व देखो विहय = विमन (नाट—मुच्छ ६६)।

विहस भक [वि + हस्] १ विकसना, खिलना, प्रफुल्ल होना। २ हास्य करना, मध्यम प्रकार का हास्य करना। विहसइ, विहसप, विहसेइ, विहसति (प्राक २६, सण, कुमा, हे ४, ३६५)। विहसेज, विहसेजा (कुमा ५, ८५)। भवि विहसिहिइ, विहसेहिइ (कुमा ५, ८३)। वक्र विहसुत्त, विहसेत्त (से २, ३६, कुमा ३, ८८, ५, ८४)। सक विहसिऊण, विहसिअ, विहसेऊण (गउड ८४५, ६१५, नाट—शकु ६८, कुमा ५, ८२)। हेक विहसिउ, विहसेउ (कुमा ५, ८२)।

विहसाव सक [वि + हासय] १ हँसाना। २ विकसित करना। सक विहसाविऊण, विहसावेऊण (प्राक ६१)।

विहसाविअ वि [विहासित] १ हँसाया हुआ। २ विकसित किया हुआ (प्राक ६१)।

विहसिअ वि [विहसित] १ विकसित, खिला हुआ, प्रफुल्ल, 'विहसियाविट्टोए विहसियमुहीए' (महा, सम्मत ७६)। २ न मध्यम प्रकार का हास्य (गउड ६६६, ७५१)।

विहसिर वि [विहसित्] खिलनेवाला, विकसित होनेवाला।

विहसिन्विअ वि [दे] विकसित, खिला हुआ (दे ७, ६१)।

विहसइ देखो विहसइ (पात्र, श्रीप)।

विहा भक [वि + भा] शोभना, चयनना। विहादि (श्री) (पि ४८७)।

विहा सक [वि + हा] परीक्षण करना। सक विहाय (सूप्र १, १४१)।

विहा भ [वृया] निरर्थक, व्यर्थ, युवा (पा १२, ५)।

विहा स्त्री [विधा] प्रकार, मेर (कण, कृ श्रु)।

विहा देखो विहग = विहायस् (सं ६१६)।

विहाइ वि [विधायिन्] कर्ता, कर्तेक (वेदय ४०३, उव ७६८ टी, धर्मि १११)।

विहाउ वि [विधात्] १ कर्ता, कर्ता (विसे १५६७, पचा ६, १६)। २ पणपति देवो के उत्तर विहा का श्र (२, ३—पत्र ८५)।

विहाउ सक [वि + घटय] १ वि करना, अलग करना। २ विनाश कर ३ खोलना, उघाडना। विहाडे, विहा (राय १०४, महा, भग), 'कम्मसुण्णं विहाडे' (श्रीप, राय)। सक 'कम्मसुण्णं विहाडे' (धर्मि १५)। कृ विहाडे (महा)।

विहाड वि [विघाट] विकट (राज)।

विहाड वि [विहाट] प्रकार-कर्ता (सं विहाडण न [दे] अनर्थ (दे ७, ७१)।

विहाडिअ वि [विघटित] १ निरर्थक किया हुआ (धर्मस ७४२)। २ शित (उप ५६७ टी)।

विहाडिअ वि [विघटित] उद्भासि, हुआ (उप ५५, वसु)।

विहाडिर वि [विघटयित्] अलग कर वियोजक (सण)।

विहाण पु [दे] १ विवि, विधाता, देव (दे ७, ६०), 'पाणुसमयवृहद्विह करेयाणो' (स १३०, भवि)। २ प्रभात, सुबह (दे ७, ६०, से ३, ३१, हे ४, ३३०, ३६२, सिरि १२५)।

अचन, 'अमो चन कुरदेव्याविहा पयारिऊण परियण एयाए वावसुणो' (स २६६)।

विधान न [विधान] १ शालोक टी ७६८, पव ३५)। २ निर्माण, रक

वोय पु [वोऋ] एक देश का नाम (पञ्च ६८, ६४) ।

वोरच्छ वि [दे] तरुण, युवा (दे ७, ८०) ।

वोरमण न [व्युपरमण] हिसा, प्राणि-वध (पह १, १—पत्र ५) ।

वोरही स्त्री [दे] १ श्रावण मास की शुक्ल चतुर्दशी तिथि में होनेवाला एक उत्सव । २ श्रावण मास की शुक्ल चतुर्दशी (दे ७ ८१) ।

वोरविअ वि [व्यपरोपित] जो मार डाला गया हो वह, 'सकारिता जुयल दिन्न विइएण वोरविओ' (व १) ।

वोरुद्धी स्त्री [दे] रुई से भरा हुआ वस्त्र (पव ८६) ।

वोल सक [गम्] १ गति करना, चलना । २ गुजारना, पसार करना । ३ अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना । ४ अक्र. गुजरना, पसार होना । वोलइ (प्राक् ७३, हे ४, १६२, महा, धर्मस ७५४), 'काल वोलेइ' (कुप्र २२४), वोलति (ज्वा १६८, धर्मवि ५३) । वक् वोलत्, वोल्लत् (कुमा, गा २१०, २२०, पत्र ६, ५४, से १४, ७५, मुपा २२८, से ६, ६६) । संक् वोलज्जण, वोल्लत्ता (महा, भाव) । क् वोल्लेअव्व (सि २.१, स. ६३) । प्रयो, सक् वोलविउ, वोल्लवेउ (मुपा १४०, गा ३४६ अ १) । देयो वोल = व्यति + क्र्म् ।

वोल देयो वोल = दे (दे ६, ६०) ।

वोल्ट् अक्र [व्युप + लुट्] धनकना । वक् वोल्ट्माण (भग) ।

वोलाविअ वि [गमित] अतिक्रमित (ज्वा १४, मुपा ३३४, गा २१) ।

वोलीअ } वि [गत] १ गया हुआ (प्राक्
वोलीण } ७७) । २ गुजरा हुआ, जो पमार
हुआ हो वह व्यतीत (सुर ६, १६, महा,
पत्र ३५, सुर ३, २५) । ३ अतिक्रान्त,

उल्लघित (पात्र, सुर २, १, कुप्र ४५, से १, ३, ४, ४८, गा ५७, २५२, ३४०, हे ४, २५८, कुमा, महा) ।

वोल्ल सक [आ + क्रम्] आक्रमण करना । वोल्लइ (धात्वा १५४) ।

वोल्लाह पु [वोल्लाह] देश-विशेष (स ८१) ।

वोल्लाह वि [वोल्लाह] देश विशेष में उत्पन्न (स ८१) ।

वोवाल पु [दे] वृषभ, बैल (दे ७, ७६) ।

वोसग्ग पु [व्युत्सर्ग] परित्याग (विसे २६०५) ।

वोसग्ग } अक्र [वि + क्स्] १ विकसना,
वोसट्ट } खिलना । २ बढ़ना । वोसग्गइ,
वोसट्टइ (षड्, हे ४, १६५, प्राक् ७६) ।

वक् वोसट्टमाण (भग, गा ८२८) ।

वोसट्ट सक [वि + कासय्] १ विकास करना । २ बढ़ाना । वोसट्टइ (धात्वा १५४) ।

वोसट्ट वि [विकसित] विकास-प्राप्त (हे ४, २५८, प्राक् ७७) ।

वोसट्ट वि [दे] भर कर खाली किया हुआ (दे ७, ८१) ।

वोसट्टिअ वि [विकसित] विकास-प्राप्त (कुमा) ।

वोसट्ट वि [व्युत्सृष्ट] १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ (कप्प, वस, श्रोष ६०५, उत्त ३५, १६, आचा २, ८, १, पचा १८, ६) । २ परिष्कार-रहित, साफसूफ वजित (सुअ १, १६, १) । ३ कायोत्सर्ग में स्थित (वस ५, १, ६१) ।

वोसमिय वि [व्यवशामित] उपशमित, शान्त किया हुआ, 'खामिय वोसमियाइ अहिगरणाइ तु जे उदीरंति । ते पावा नायव्वा' (अ ६ टी—पत्र ३७१) ।

वोसर } सक [व्युन् + सृज्] परित्याग
वोसिर } करना, छोड़ना । वोसरिमो,
वोसिरइ, वोसिरामि (पव २३७, महा, भग,

श्रोप), वोसिरेज्जा, वोसिरे (पि २३५) । वक् वोसिरंत (कुप्र ८१) । सक् वोसिज्ज, वोसिरित्ता (सुअ १, ३, ३, ७, पि २३५) । क् वोसिरियव्व (पत्र ४६) ।

वोसिर वि [व्युत्सर्जन] छोड़नेवाला (उप पृ २६८) ।

वोसिरण न [व्युत्सर्जन] परित्याग (हे २, १७४, आ १२, श्रावक ३७६, श्रोष ८५) ।

वोसिरिअ देखो वोसट्ट (पत्र ४, ५२, धर्मस १०५१, महा) ।

वोसेअ वि [दे] उन्मुख-गत (दे ७, ८१) ।

वोहित्त न [वहित्र] प्रवहण, जहाज, नौका (गा ७४६) । देखो वोहित्थ ।

वोहार न [दे] जल-वहन (दे ७, ८०) ।

व्युड पु [दे] विट, भड्डा (षड्) ।

व्रद देखो वद = वृन्द (प्राप्र) ।

व्रत्त (अप) देखो वय = व्रत (हे ४, ३६४) ।

व्राकोस (अप) पु [व्याक्रोश] १ शाप । २ निन्दा । ३ विरुद्ध चिन्तन (प्राक् ११२) ।

व्रागरण (अप) देखो वागरण (प्राक् ११२) ।

व्राडि (अप) पुं [व्याडि] सस्कृत व्याकरण

श्रीर कोप का कर्ता एक मुनि (प्राक् ११२) ।

व्रास देखो वास = व्यास (हे ४, ३६६, प्राक् ११२, षड्, कुमा) ।

व्व देखो इव (हे २, १८२, कप्प, रमा) ।

व्व देखो वा = अ (प्राक् २६) ।

व्वअ देखो वय = व्रत (कुमा) ।

व्ववसिअ देखो ववसिय = व्यवसित (अभि १२४) ।

व्ववाज देखो वाय = व्याज (मा २०) ।

व्ववाचार देखो वाचार = व्यापार (मा ३६) ।

व्ववावुड देखो वावुड (अभि २४६) ।

व्ववाहि देखो वाहि (मा ४४) ।

व्विव देखो इव (प्राक् २६) ।

व्वे अ [दे] सवोधन-सूचक अव्यय (प्राक् ८०) ।

॥ इअ निरिपाइअसइमहण्णवम्मि वपाराइसइसकलएओ पचतोसइमो तरगो समतो ॥

महादेव । ५ वायु, पवन । ६ कपूर (हे ३, १६) ।

विह्वल वि [विधुत] कम्पित (गा ६६०, गउड) । २ उन्मूलित, उखाडा हुआ (से १, ५५) । ३ त्यक्त (गउड) ।

विह्वल पु [दे] राहु, ग्रह-विशेष (दे ७, ६५) ।

विह्वल सक [वि+धू] १ कँपाना, हिलाना । २ दूर करना, हटाना । ३ त्याग करना । ४ पृथेग करना, अलग करना । विह्वलइ, विह्वलति (भवि, पि ५०३), विह्वलाहि (उत्त १०, ३) । कर्म विह्वलइ (पि ५३६) । वक्त्र विह्वलणत, विह्वलमाण (सुपा २७२, पउम ६४, ३५) । कत्रक विह्वलवत (से ६, ३५, ७, २१) । सक्र. विह्वलणिय (सूत्र १, २, १, १५, यति २१, स ३०८) ।

विह्वलण न [विधूनन] १ दूरीकरण (पउम १०१, १६) । २ व्यजन, पक्षा (राज) ।

विह्वलणिय वि [विधूत] देखो विह्वल (सुपा २५३, यति २१) ।

विह्वर वि [विधुर] १ विकल, व्याकुल, विह्वल (स्वप्न ६३, महा, कुमा, दे १, १५, सुपा ६२, गउड, सण) । २ क्षीण (गउड १०३६) । ३ विसदृश, विलक्षण, विपम, 'अवि-सिद्धमिवि जोगमि वाहिरे होइ विह्वरया' (श्रीघ ५१) । ४ विच्छिष्ट, वियुक्त (गउड ८३६) । ३ न व्याकुल-भाव, विह्वलता, 'विलोट्टए विह्वरमि' (स ७१६, वज्जा ३२, ६४, प्रासू ५८, भवि, सण) ।

विह्वराइअ वि [विधुरायित] व्याकुल बना हुआ (गउड १११ टो) ।

विह्वरिज्जमाण वि [विधुरायमाण] व्याकुल बनता (सुपा ४१६) ।

विह्वरिय वि [विधुरित] १ व्याकुल बना हुआ (सुर २, २१६, ६ ११५, महा) । २ वियुक्त बना हुआ, बिछुडा हुआ, विरहित (गउड) ।

विह्वरीकय वि [विधुरीकृत] व्याकुल किया हुआ (कुमा) ।

विह्वल देखो विह्वर (पाम्र) ।

विह्वल वि [विधुल] १ खिला हुआ । २ उत्साही, 'नियकज्जविह्वल्ली' (भवि) ।

विह्वलवत देखो विह्वल ।

विह्वल वि [विधूत] १ कम्पित, (माल १७८) । २ वजित, रहित, 'नयविहि-ह्वयुद्धो' (पउम ५५ ४) । देखो विधूय, विह्वल ।

विह्वल देखो विभूइ (अच्छु १४, भवि) ।

विह्वल देखो विह्वण । सक्र. विह्वलणिया (आचा १, ७, ८, २४, सूत्र १, १, २, १२, पि ५०३) ।

विह्वल देखो विहीण (कुमा, उव) ।

विह्वलणय न [विधूनन] व्यजन, पक्षा (सूत्र १, ४, २, १०) ।

विह्वलण देखो विभूसण (दे ६, १२७, सुपा १६१, कुप्र २६) ।

विह्वला ली [विभूपा] १ शोभा (सुपा ६२१, दे ६, ८३) । २ अलकार आदि से शरीर की सजावट (पचा १०, २१) ।

विह्वलसिअ वि [विभूषित] विभूषण-युक्त, अलंकृत (भवि) ।

विह्वे सक [वि+धा] करना, बनाना । विह्वे विह्वेति, विह्वेसि, विह्वेमि (धर्मस १०११, स ६३४, ७१२, गउड, ३३२, कुमा ७, ६७) । सक्र. विह्वेऊण (पि ५८५) । हेक्क विह्वेउ (हित ?) । क. विह्वियव्व, विह्वेअ, विह्वेअव्व (सुपा १५८, हि २२, धम्मो ४, महा, सुपा १६३, आ १२, हि २, पउम ६६, १८, सुपा १५६) ।

विह्वेड सक [वि+हेटय] १ मारना, हिंसा करना । २ पीडा करना । वक्त्र. विह्वेडयत (उत्त १२ ३६) । कवक्त्र. 'विह्वेअवाहि विह्वेड (पट्ट)यता' (परण १, ३—पत्र ५३) ।

विह्वेडय वि [विह्वेडक] अनादर-कर्ता (वत्त १०, १०) ।

विह्वेडि वि [विह्वेडिन्] १ हिंसा करनेवाला । २ पीडा करनेवाला, 'अणे मते अहिज्जुति पाणभूयविह्वेडिणो' (सूत्र १, ८, ४) ।

विह्वेडिय वि [विह्वेडित] पीडित (भत्त १३३) ।

विह्वेडणा ली [विह्वेडना] कदर्यना, पीडा (उव) ।

विह्वेड सक [ताडय] ताडन करना । विह्वेडइ (हे ४, २७) ।

विह्वेडिअ वि [ताडित] जिसका ताडन किया गया हो वह (कुमा) ।

विह्वेय (अप) देखो विह्व (भवि) ।

वी देखो वि = अपि, वि, 'एक्क चिय जाव न वी, दुक्ख बोलेइ जणियपियविरह' (पउम १७, १२) ।

वीअ सक [वीजय] हवा डालना, पक्षा करना । वीअअति अमि ८६, वीयति (सुर १, ६६) । वक्त्र. वीअंत (गा ८६, सुर ७, ८८) । कवक्त्र. विह्वेज्जत, वीह्वेज्जमाण (से ६, ३७, याया १, १—पत्र ३३) ।

वीअ वि [दे] १ विधुर, व्याकुल । २ तत्काल, तात्कालिक, उसी समय का (दे ६, ६३) ।

वीअ देखो वीअ = द्वितीय (कुमा, गा ८६, २०६, ४०६, गउड) ।

वीअ वि [वीत] विगत, नष्ट (भग, अरुक्क ६६) । 'कम्ह न [कर्म ?] १ गोत्र विशेष । २ पुत्री उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०) । 'धूम वि [धूम] द्वेष रहित (भग ७, १—पत्र २६१) । 'अभय, 'अभय न [अभय] १ नगर-विशेष, तिज्जुसोवीर देश की प्राचीन राजधानी (धर्मवि १६, २१, इक, विचार ४८, महा) । २ वि भय रहित (धमवि २१) । 'मोह वि [मोह] मोह रहित (अरुक्क ६६) । 'राग, 'राय वि [राग] राग-रहित, क्षीण राग (भग, सं ४१) । 'सोग पु [शोक] एक महाग्रह (सुज्ज २०, ठा २, ३—पत्र ७६) । 'सोगा ली [शोका] सलिलावती नामक विजय-प्रांत की राजधानी, नगरी-विशेष (याया १, ८—पत्र १२१, इक, पउम २०, १४२) ।

वीअजमण देखो वीअजमण (दे ६, ६३ वी) ।

वीअण न [वीजन] १ हवा करना, पक्षा से हवा करना (कप्पू) । २ ज्वन पक्षा, व्यजन (सुर १, ६६, कुप्र ३३३, महा) । ली 'जी (श्रीघ, सूत्र १, ६, ८, याया १, १—पत्र ३२) ।

समान धर्मवाला (द्र १७) । २ तरफदार (कुप्र ११६) । ३ अपना पक्ष (सम्म २१) । °पाय न [°पात्र] निज का नाम, खुद की सजा (राज) । °प्यभ वि [°प्रभ] निज से ही शोभनेवाला (मम १३७) । °वभाव, °भाव पु [°भाव] प्रकृति, निसर्ग, 'कणियारतह नवकणिएणआरमुदेरदरिग्रसम्भाओ' (कुमा ३, ४६, सम्म २१, सुर १, २७, ४, १२५),

'कुवियम्म आउरत्स य

वसणामत्तस्स आयरत्सस ।

मत्तस्स मरतस्स य

सम्भावा पायडा हुति"

(प्रासू ६४) ।

°भायन्तु वि [°भावज] स्वभाव का जानकार (पउम ८६, ४१) । °यण देखो °जण (उवा, हे २, ११४, सुर ४, ७६, प्रासू ७६, ६५) । °रुय, °रुय न [°रुप] स्वभाव (गउड, धर्मस ६१३, कुमा, भवि, सुर २, १४२) । °सवेयण न [°सवेदन] स्वप्रत्यक्षज्ञान (धर्मस ४४) । °हाअ, °हाव देगो °भाअ (से ३, १५, ७, १७, गउड, सुर ३, २२, प्रासू २, १०३) । °हाववाद पु [°भाअवाद] स्वभाव से ही सब कुछ होता है ऐसा माननेवाला मत (उप १००३) । °हअ न [°हित] १ निज का भना, स्वयं—प्रानो भनार्द । २ वि निज का भना करनेवाला, स्वहितकर (सुपा ६१०) ।

सं वि [सं] १ नहित, युक्त (सम १३७, भग, उपा, सुपा १६२, सण) । २ समान, तुल्य, 'उत्ते', 'उत्ते' (वप्प, निर १, १) । °अण्द वि [°तृण] उत्कण्ठित, उत्सुक (१, २, ८, गा ३६८, गउड, सुपा ३८०) । °अर वि [°र] पर गदित (उ २, २६) । °अर वि [°गर] विप युक्त, जर्द्रीला (ने ७, २३) । °अण्द देवा °अण्द (सुपा ६१२) । °उग वि [°गुग] गुण युक्त (सुपा १८५) । °उग, °उन्न वि [°पुण] पुण्य-युक्त, दुन्य शानो (महा, सुर २, ६८, सुपा ६३५) । °आस वि [°ताप] उन्मुट (उप ७२८ टी) । °ओम वि [°ओम] दान-युक्त (उप ६२८ टी) । °ताम वि [°ताम] १ सयुद्ध नारायणता (मन्य ३०) । २ नारायण-युक्त,

इच्छावाला (राज) । °कामणिज्जरा ली [°कामनिज्जरा] कर्म-निजरा का एक भेद (राज) । °काममरण न [°काममरण] मरण-विशेष, परिडत-मरण (उत्त ५, २) । °केय वि [°केत] १ गृहस्थ । २ प्रत्याख्यान-विशेष (पव ४) । °क्खर वि [°क्षर] विद्वान्, जानकार (वज्जा १५८, सम्मत्त १४३) । °गार वि [°गार] गृहस्थ (शोधभा २०) । °गार वि [°गार] आकार-युक्त (धमवि ७२) । °गुण वि [°गुण] गुणवान्, गुणी (उव, सुपा ३४५, सुर ४, १६६) । °गा वि [°ग] श्रेष्ठ, उत्तम (से ६, ४७) । °गाह वि [°ग्रह] उपरक्त, ग्रहण-युक्त, दुष्ट ग्रह से आक्रान्त (पाअ, वव १) । °घिण वि [°घृण] दयालु (अच्छु ५०) । °चक्खु, °चक्खुअ वि [°चक्षुप, °चक्षुप्] नेत्र-वाला, देखता (पउम ६७, २३, वसु, स ७८, विपा १, १—पत्र ५) । °चित्त वि [°चित्त] चेतनावाला, सजीव (उवा, पडि) । °चेयण वि [°चेतन] वही अर्थ (विसे १७५३) । °चित्त देखो °चित्त (शोध २२, सुपा २५, ६२६, पि १६६, ३५०) । °जिय देवो °ज्जीअ (सुर १२, २१०) । °जोइ वि [°ज्यातिप्] प्रकाश-युक्त (पि ६११, सूत्र ८, ५, १, ७) । °जोगिय वि [°योनिक] उत्पत्ति-स्थानवाला, ससारी (ठा २, १—पत्र ३८) । °ज्जीअ, °ज्जीव वि [°जीव] १ ज्या-युक्त, धनुष की डोरी-वाला । २ सचेतन, जीववाला (पि १६६, से १, ४५) । ३ न कला-विशेष, मृत धातु वंगरह को सजीवन करने का ज्ञान (शोध, राय, ज २ टी—पत्र १३७) । °डुड वि [°द्वि] डेढ़ । °डुडमाल पु [°द्विकाल] तप-विशेष, गुरमडु तप (सवोध ५८) । °णप्पय, °णप्फद, °णप्फय वि [°नखपद] नख युक्त पैरवाला, सिंह आदि स्वापद जलु (सूत्र २, ३, २३, ठा ४, ६—पत्र २७१, सूत्र १, ५, २, ७, पण १—पत्र ४६, नि १६८) । °णाह वि [°नाथ] स्वामी-वाला, जिसका कोई मालिक हो वह (विपा १, २—पत्र २७, रना, कुमा) । °त्तण्द वि [°तृण] तृष्णा-युक्त, उत्कण्ठित,

उत्सुक (से १, ४६) । °त्तर वि [°त्वर] १ त्वरा-युक्त, वेगवाला । २ न. शीघ्र, जल्दी (सुपा १५६) । °द्व वि [°द्वि] अर्ध सहित, डेढ़ (पउम ६८, ५४) । °ववा ली [°ववा] सौभाग्यवती ली, जिसका पति जीवित हो वह ली (सुपा ३६५) । °नय वि [°नय] न्याय-युक्त, व्याजबी (सुपा ५०४) । °पक्ख वि [°पक्ष] १ पाँखवाला, पाँखो से युक्त (से २, १४) । २ सहायता करनेवाला, सहायक, मित्र (पव २३६, स ३६७) । ३ समान पार्श्ववाला, दक्षिण आदि तरफ से जो समान हो वह (निर १, १) । °पुन्न वि [°पुण्य] पुण्यशाली, पुण्यवान् (सुपा ३८४) । °प्यभ वि [°प्रभ] प्रभा-युक्त (सम १३७, भग) । °प्परिआव, °प्परिताव वि [°परिताप] परिताप—सताप से युक्त (आ ३७, पड्) । °प्पिस-ह्ग वि [°पिशाचक] पिशाच-गृहीत, पागल (पणह २, ५—पत्र १५०) । °प्पिवास वि [°पिपास] सुपातुर, सतृष्ण (हे २, ६७) । °प्पिह वि [°स्पृह] स्पृहावाला (दे ७, २६) । °प्फद वि [°स्पन्द] चलायमान (दे ८, ८) । °प्फल, °फल वि [°फल] सार्थक (से १५, १४, हे २, २०४, प्राप, उप ७२८ टी) । °व्वल वि [°वल] बल वान्, बलिष्ठ (पिंग) । °भल देवो °फल (हे १, २३६, कुमा) । °मण वि [°मनस्] १ मनवाला, निवेक-बुद्धिवाला (धण २२) । २ समान मनवाला, राग-द्वेष आदि से रहित, मुनि, साधु (अणु) । °मणप्पल वि [°मनस्क] पूर्वोक्त अर्थ (सूत्र २, ४, २) । °मय वि [°मद] मद-युक्त (से १, १६, सुपा १८८) । °महिड्डिअ वि [°महद्विक] महान् वेभव-वाला (प्रासू १०७) । °मिरिईअ, °मिरीय वि [°मरीचिक] किरण-युक्त (भग, श्रौप, ठा ४, १—पत्र ३२६) । °मेर वि [°मर्याद] मर्यादा-युक्त (ठा ३, २—पत्र १२६) । °यण्द वि [°तृण] तृष्णा-युक्त (गउड, सुपा ३८४) । °याण वि [°ज्ञान] सयाना, जानकार (सुपा ३८५) । °योगि वि [°योगिन्] १ व्यापार-युक्त, योगवाला । २ न तेरहाँ गुण स्थानक (कम्म २, ३१) ।

[वरणी] प्रतिसुभट से प्रथम शत्रु-प्रहार की याचना (सिरि १०२४)। °वल्य न [°वल्य] सुभट का एक आभूषण, वीरत्व-सूचक कड़ा (कप्प, तद्दु २६)। °विराली छो [°विराली] वल्लो-विशेष (परण १—पत्र ३३)। °सिग पुन [°शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १२)। सिट्ट पुन [°सृष्ट] एक देव-विमान (सम १२)। °सेण पुं [°सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादव का नाम (णाय १, ५—पत्र १००, अत, उप ६४८ टी)। °सेणिय पुन [°सैनिक, श्रेणिऋ] एक देव-विमान (सम १२)। °वत्त पुन [°वत्त] देवविमान विशेष (सम १२)। °सण न [°सन] आसन विशेष, नीचे पैर रखकर सिंहासन पर बैठने के जैसा अवस्थान (णाय १, १—पत्र ७२, भग)। °सणिय वि [°सनिक] वीरासन से बैठनेवाला (ठा ५, १—पत्र २६६, कस, श्रौप)।

वीरगय पु [वीराङ्गद] १ भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेनेवाला एक राजा (ठा ८—पत्र ४३०)। २ एक राजकुमार (उप १०३१ टी)।

वीरण छीन [वीरण] सुण-विशेष, उशीर, खत (अणु २१२, पात्र)।

वीरह पु [वीरह] श्येन पक्षी (परह १, १—पत्र ८, १३)।

वीरिअ पु [वीर्य] १ भगवान् पार्श्वनाथ का एक मुनि-सद्य। २ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणधर (ठा ८—पत्र ४२६)। ३ पुन शक्ति, सामर्थ्य (उवा, ठा ३, १ टी—पत्र १०६)। ४ अन्तरंग शक्ति, आत्म-बल (प्रासू ४६, अज्ज ६५)। ५ पराक्रम (कम्म १, ५२)। ६ एक देव विमान (वेवेन्द्र १३१)। ७ शरीर-स्थित एक धातु, शुक्र। ८ तेज, दीप्ति (हे २, १०७, प्राप्र)।

वीरुणी छो [वीरुणी] पर्व-धनस्पति विशेष, 'वीरुणा (? णी) तह इक्कडे य मासे य' (परण १—पत्र ३३)।

वीरुत्तरवडिसग पुन [वीरोत्तरावतसक] एक देव-विमान (सम १२)।

वीरुहा छो [वीरुहा] विस्तृत लता (कुप्र ६५, १३६)।

वीलय वि [दे] पिच्छिल, स्निग्ध, मखण, चिकना (दे ७, ७३)।

वीलय देखो वीलय (दे ६, ६३)।

वीली छो [दे] १ तरंग, कल्लोल (दे ७, ७३)। २ वीथी, पक्ति, श्रेणी (पड्)।

वीवाह देखो विवाह = विवाह, 'एसा एकका धुया वल्लहिया ता इमोए वीवाह' (सुर ७, १२१, महा)।

वीवाहण न [विवाहन] विवाह करण, विवाह क्रिया (उव ६८६ टी, सिरि १५१)।

वीवाहिंग वि [वैवाहिक] विवाह-सम्बन्धी (यमंवि १४७)।

वीवाहिय वि [विवाहित] जिसकी शादी की गई हो वह (महा)।

वीवी छो [दे] वीचि, तरंग (पड)।

वीस देखो विस्स = विल (सुअ २, २, ६६, सक्षि २०)।

वीस देखो विस्स = विश्व (सुअ १, ६, २२)।

°उरी छो [°पुरी] नगरी विशेष (उप ५६२)।

°सअ वि [°सज्ज] जगल्लता (पड्)।

°सेण पुं [°सेन] १ चक्रवर्ती राजा, 'जोहेसु' णाप जह वीससेणे' (सुअ १, ६, २२)।

२ पु अहोरात्र का १८ वॉं घुहूतं (सुज्ज १०, १३)।

वीस } छो [विंशति] १ संख्या-विशेष,

वीसइ } वीस, २०। २ जिनही संख्या

वीस हो वे (कप्प, कुमा, प्राङ्ग ३१, सक्षि २१)। °म वि [°म] १ वीसवाँ, २० वाँ

(सुपा ४५२, ४५७; पउम २०, २८; पव ४६)। २ न, लगातार नव दिनों का

उपवास (णाय १, १—पत्र ७२)। °हा अ

[°घा] वीस प्रकार से (कम्म १, ५)।

वीसत वि [विश्रान्त] १ विश्राम-प्राप्त,

जिसने विश्रान्ति ली हो वह, 'परिस्सता

वीसता नग्गोहतस्तले' (कुप्र ६२, पउम ३३, १३, दे ७, ८६, पाअ, सण, उप ६४८ टी)।

वीसदण न [विस्स्यन्दन] दही की तर और

आटे से बनता एक प्रकार का खाद्य (पव ४, पना ३३)।

वीसभ देखो विस्सभ = वि + अश्म्। वीसभ (सुअनि २१ टी)।

वीसभ देखो विस्सभ = विधम्म (उव, प्राप्र, गा ४३७)।

वीसज्जिअ देखो विसज्जिअ (से ६, ७७, १५, ६३, पउम १०, ५२, धर्मावि ४६)।

वीसत्थ वि [विश्वस्त] विश्वास-युक्त (प्राप्र, गा ६०८)।

वीसद्ध वि [विश्रब्ध] विश्वास युक्त (गा ३७६, अमि ११६, भवि, नाट—पृच्छ १६१)।

वीसम देखो विस्सम = वि + अश्म्। वीसम, वीसमामो (पड्, महा, पि ४८६)। वड्.

वीसममाण (पउम ३२, ४२, पि ४८६)।

वीसम देखो विस्सम = विश्रम (पड्)।

वीसम देखो वीस-म।

वीसमिर वि [विश्रमिट्] विश्राम करनेवाला (सण)।

वीसर देखो विस्सर = वि + स्सु। वीसर (हे ४, ७५, ४२६, प्राङ्ग. ६३, पड्, भवि), वीसरसि (रभा)।

वीसर देखो वीरसर = विस्वर, 'वीसरस' रसतो जो सो जोणीमुहाओ निप्पिअइ' (तद्दु १४)।

वीसरणालु वि [विस्मट्] भूल जानेवाला (ओघ ४२५)।

वीसरिअ देखो विस्सरिय (गा ३६१)।

वीसव (अप) सक [वि + अश्मय,] विश्राम करवाना। वीसवइ (भवि)।

वीसस देखो विस्सस। वीससइ (पि ६४, ४६६)। वड् वीससत (पउम ११३, ५)। छ. वीससणिज्ज, वीससणीअ (उत्त २६, ४२, नाट—मालवि ५३)।

वीससा अ [विस्सा] स्वभाव, प्रकृति (अ ३, ३—पत्र १५२, भग, णाय १, १२)।

वीससिय वि [वैस्ससिक] स्वाभाविक (आवम)।

वीसा देखो वीसइ (हे १, २८, ६२, ठा ३, १—पत्र ११६, पड्)।

वीसा छो [विश्वा] ग्रथिवी, धरती (नाट)।

वीसाण पु [विष्वाण] आहार, भोजन (हे १, ४३)।

सइलामअ } पु [दे] मयूर, मोर (दे ८,
सइलासिअ } २०, पङ् ।

सइय पु [मचिव] १ प्रधान, मन्त्री, अमात्य
(पाप्र) । २ सहाय, मददकर्ता । ३ काला
घट्टा (प्राक् ११) ।

सइसिलिव पु [दे] स्कन्द, कार्तिकेय (दे ८,
२०) ।

सइसुह वि [दे.स्मृतिमुख] देखो सइदसण
(दे ८, १६, पाप्र) ।

सई छी [शची] इन्द्राणी, शक्रेन्द्र की एक
पटरानी (ठा ८—पत्र ४२६, एया २—
पत्र २५३, पाप्र, सुपा ६८, ६२२, कुप्र
२.) । 'स पु [°श] इन्द्र (कुमा) । देखो
सची ।

सई छी [सती] पतिव्रता छी (कुप्रा २३,
सिरि १६३) ।

सई छी [°शती] सौ, १००, 'पचमई'
(धर्मवि १४) ।

सईगा छी [दे] अन्न-विशेष, तुवरी, रहर
(ठा ५, ३—पत्र ३४३) ।

सउ } (अप) देखो सह (सण, भवि) ।
सउ }

सउत पु [शकुन्त] १ पक्षी, पाखी (पाप्र) ।
२ पक्षि-विशेष, भास-पक्षी (स ४३६) ।

सउतला छी [शकुन्तला] विश्वामित्र ऋषि
की पुत्री भोर राजा दुष्यंत की गन्धर्व-विवा-
हिता पत्नी (हे ८, २६०) ।

सउतला (शौ) ऊपर देखो (धर्मि २६, ३०,
पि २७५) ।

सउण वि [दे] ऋड, प्रसिद्ध (दे ८, ३) ।

मउण पु [शकुन] १ शुभाशुभ-मूचक बाहु-
मन्त्र राक्षस-मन्त्रादि निमित्त, सउण,
मुश्यागार मंत्रणा कंदिप्रसदाई इप्ररो उ'
(पा २ सुपा १८५, महा) । २ पु पत्नी,
पाता (पाप्र, गा ३२०, २८५, वरु ३४,
सद्वे ६ थं) । ३ पक्षि-विशेष (पएह १,
१—१८८) । 'पिउ रि [°विड] सउण
दा मा.र.र. गु. २६३) । 'रुअन [°रुन]
१ प.स.दा.मा.स.स. २ रुना विशेष, सउण
स.रि.पा. (एया १, १—पत्र ३८, ज
२ थं—२५ १३३) ।

सउण देखो स-उण = स-गुण ।

सउणि पु [शकुनि] १ पक्षी, पखेरू, पाँखी
(ग्रौप, हेका १०५, सवोव १७) । २ पक्षि-
विशेष, चील पक्षी (पाप्र) । ३ ज्योतिष-
प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुर्दशी
की रात में सदा अवस्थित रहता है (विते
३३५०) । ४ नपुसक विशेष, चटक की तरह
वारवार मैथुन-प्रसक्त स्त्री (पव १०६, पुष्प
१२७) । ५ दुर्योधन का मामा (एया १,
१६—पत्र २ ८, सुपा २६०) ।

सउणिअ देखो साउणिअ (राज) ।

सउणिआ } छी [शकुनिका, °नी] १
सउणिगा } पक्षिणी, पक्षी की मादा (गा
सउणी } ८१०, श्राव १) । २ पक्षि-विशेष
की मादा, 'सउणी जाया तुम' (ती ८) ।

सउण्ण देखो स-उण्ण = सपुण्य ।

सउत्ती छी [सपत्नी] एक पति की दूसरी
छी, समान पतिवाली छी, सौत, सौतिन
(सुपा ६८) ।

सउन्न देखो स-उन्न ।

सउम पु [सदमन्] १ गृह, घर । २ जल,
पानी (प्राक् २८) ।

सउमार वि [सुकुमार] कोमल (से १०,
३४, पङ्) ।

सउर पु [सौर] १ ग्रह-विशेष, शनैश्वर । २
यम, जमराज । ३ वृक्ष-विशेष, उदुम्बर का
पेड़ । ४ वि सूर्य का उपासक । ५ सूर्य-
सवन्धी (चड, हे १, १६२) ।

सउरि पु [शौरि] विष्णु, श्रीकृष्ण (पाप्र) ।

सउरिस देखो स-उरिस = सत्पुरुष ।

सउल पुं [शकुल] मत्स्य, मछली, 'सउला
सहस मीणा तिमी कसा अणिमिसा मच्छा'
(पाप्र) ।

सउलिअ वि [दे] प्रेरित (दे ८, १२) ।

सउलिआ } छी [दे शकुनिका, °नी]
सउली } १ पक्षि-विशेष की मादा, चील
पक्षी की मादा (ती ८, अणु १४१, दे ८,
८) । २ एक महीपथि (ती ५) । 'विहार
पु [°विहार] गुजरात के भरौच शहर का
एक प्राचीन जैन मन्दिर (ती ८) ।

सउइ पुं [सोध] १ रात महल, राज-प्रासाद
(कुमा) । २ न स्था, चादी । ३ पुं. पापाण-

विशेष । ४ वि. सुधा-सवन्धी, अमृत का
(चड, हे १, १६२) ।

सएडिअ देखो सइडिअ (कुप्र १६३) ।

सओस देखो स ओस = स-तोष- स-दोष ।

स अ [शम्] सुख, शर्म (स ६११, सुर
१६, ४२, सुपा ४१६) ।

स अ [सम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ प्रकर्ष । अतिशय (धर्मस ८६७) । २
सगति । ३ सुन्दरता, शोभनता । ४ समुच्चय ।
५ योग्यता, व्याजवीपन (षड्) ।

सक सक [शङ्क] १ सशय करना, सदेह
करना । २ अक. भय करना, डरना । सकइ,
सकए, सकति, सकसि, सकसे, सकह, सकथ,
सकामि, संकामो, सकाणु, संकाम (संक्षि ३०),
'असकिआइ सकति' (सुप्र १, १, २, १०,
११), "ज सम्ममुज्जमताण पाणि (एणी) ए
सकए हू विही" (सिरि ६६६) । कर्म
सकिण्णइ (गा ५०६) । वक्र. सकत, सक-
माण (पव, रभा ३३) । कृ. संकणिञ्ज
(उप ७२८ टी) ।

सकत वि [सक्रान्त] १ प्रतिबिम्बित (गा
१, से १, ५७) । २ प्रविष्ट, घुसा हुआ (ठा
३, ३, कप्प, महा) । ३ प्राप्त । ४ सक्रमण-
कर्ता । ५ संक्रान्ति-युक्त । ६ पिता आदि से
दाय रूप से प्राप्त छी का धन (पाप्र) ।

सकति छी [सक्रान्ति] १ सक्रमण, प्रवेश
(पव १५५, अज्ज १५३) । २ सूर्य आदि
का एक राशि से दूसरी राशि में जाना,
'श्रावन् कक्षसकतिदिवसो दिनसनाहु व'
(धर्मवि ६६) ।

सकदण पु [सक्रन्दन] इन्द्र, देवाधीश
(उप ५३० टी, उपप १) ।

सकट्टिअ वि [सकटित] काटा हुआ, 'धन-
सकट्टिताणा' (ठा ४, ४—पत्र २७६) ।

सकट्ट वि [सकट्ट] व्याप्त (राज) ।

सकट्ट देखो सकट्ट (राज) ।

सकड वि [सकट] १ सकीर्ण, कम-चोडा,
अल्प अवकाशवाला (स ३६२, सुपा ४१६,
उा ८३३ टी) । २ विपम, गहन (पिड
६३८) । ३ न. दुख,

बुज्भंत वि [बुज्भमान] पानी के वेग से खींचा जाता, वह जाता (पउम १०२, २४), 'गिरि-निष्करणोत्सोहि बुज्भंतो' (वै ८२)। देखो वह = वह् ।

बुज्भण देखो बुज्जण (धर्मस १०२१)।

बुज्भमाण देखो बुज्भंत (पउम ८३, ४)।

बुज्ज (अप) देखो वज्ज = अण् । बुज्ज (हे ४, २६२, कुमा)। सङ्ग. बुज्जेप्पि, बुज्जेप्पणु (हे ४, ३६२)।

बुद्ध अक [व्युत् + स्था] उठना, खड़ा होना । बुद्धए (पि ३३७)।

बुद्ध वि [वृष्ट] १ बरसा हुआ (हे १, १३७, विपा २, १—पत्र १०८, कुमा १, ८५)। २ न. वृष्टि (दस ८, ६)।

बुद्धि देखो विद्धि = वृष्टि (हे १, १३७, कुमा)। 'काय पु [काय] बरसता जल-समूह (भग १४, २—पत्र ६३४, कप्प)।

बुद्धिय वि [व्युत्थित] जो उठ कर खड़ा हुआ हो वह (भवि)।

'बुद्ध देखो पुद्ध = पुट, 'अपइ कयजलिबुद्धो' (पउम ६३, २२)।

बुद्ध अक [वृध्] बढ़ना (संज्ञि ३४)। बुद्धति (भग ५, ८)।

बुद्ध सक [वर्धय] बढ़ाना । वक्र. बुद्धत (द्र २३)।

बुद्ध वि [वृद्ध] १ जरा अवस्थावाला, बूढ़ा (अप, सुर ३, १०४, सुपा २२७, सम्मत १५८, प्राक् ११६, सण)। २ बड़ा, महान् (कुमा)। ३ बुद्धि-प्राप्त । ४ अनुभवो, कुशल, निपुण । ५ पढित, जानकार (हे १, १३१, २, ४०, ६०)। ६ निश्चल, शान्त, निर्विकार (ठा ८)। ७ पु तापस, सन्यासी (याया १, १५—पत्र १६३, अणु २४)। ८ एक जैन मुनि का नाम (कप्प)।

'त्त, 'त्तण न [त्त्] बुद्धापा, बरावस्था (सुपा ३६०, २४२)। 'वाइ पु [वादिन्] एक समर्थ जैनाचार्य जो सुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के गुरु थे (सम्मत १४०)। 'वाय पु [वाद्] किंवदन्ती, कहावत, जनश्रुति (स २०७)। 'सावग पु [श्रावक] ब्राह्मण (याया १, १५—पत्र १६३, अप)। 'णुम वि [तुग] बूढ़ का अनुयायी (स ३३)।

बुद्ध वि [दे] विनट (राज)।

बुद्धि ब्री [वृद्धि] १ बढ़ाव, बढ़ना (भाचा, भग, उवा, कुमा, सण)। २ अम्युदय, उन्नति । ३ समृद्धि, संपत्ति । ४ व्याकरण-प्रसिद्ध ऐंकार आदि वर्णों की एक सजा (सुपा १०३, हे १, १३१)। ५ समूह । ६ कलान्तर, सूद । ७ भ्रोषधि-विशेष । ८ पु गन्धद्रव्य-विशेष (हे १, १३१)। 'कर वि [कर] वृद्धि-कर्ता (सुर १ १२६, द्र २४)। 'धम्मय वि [धर्मक] बढ़नेवाला, वर्धन-शील (भाचा)। 'म वि [मत्] वृद्धिवाला (विचार ४६७)।

बुण्ण न [दे] कुना (सम्मत १७३)।

बुणिय वि [दे] कुना हुआ, 'अ बुणिया खट्टा' (कुप्र २२०)।

बुण्ण वि [दे] १ भीत, अस्त (दे ७, ६४, विपा १, २—पत्र २४)। २ उद्विग्न (दे ७, ६४)।

बुत्त वि [उत्त] कथित (उवा, अणु ३, महा)।

बुत्त वि [उत्त] बोया हुआ (उव)।

बुत्त न [वृत्त] छन्द, कविता, पद्य (पिंग)। देखो वट्ट = वृत्त।

'बुत्त देखो पुत्त (प्रयौ २२)।

बुत्तत पु [वृत्तान्त] खबर, समाचार, हकीकत, बात (स्वन् १५३, प्राप्, हे १, १३६, स ३५)।

बुत्ति देखो वत्ति = वृत्ति, 'जायायावृत्तिएण' (सूअ २, १, ५०, प्राक् ८)।

बुत्थ वि [उचित] बसा हुआ, रहा हुआ (प्राक्, याया १, ८—पत्र १४८, उव, सण ४३, उप पृ १२७, सुख २, १७, से ११, ८०, कुप्र १८७)।

बुद्ध देखो बुअ = वृत्त (प्राक् ८)।

बुदास पु [व्युदास] निरास (विसे ३४७५)।

बुदि देखो वडि = वृत्ति (प्राक् ८)।

बुद्ध देखो बुद्ध = वृद्ध (वड्)।

बुद्धि देखो बुद्धि (ठा १०—पत्र ५२५, सम १७, संज्ञि ४)।

बुद्ध देखो बुण्ण (सुर ६, १२४, सुपा २५०, यामि १०, भवि, कुमा, हे ४, ४२१)।

बुत्तत वि [उत्तमान] बोया जाता, 'पिच्छ य मगलसएहि वप्पिण करिसोहि बुत्तत' (भाक २५, पि ३३७)।

बुत्पाय वि [व्युत् + पादय] व्युत्थ करना, होशियार करना । वक्र. बुत्पायमाण (याया १, १२—पत्र १७४, अप)।

बुत्प न [दे] शोकर, शिर स्थित (दे ७, ७४)।

बुत्त देखो वह = वह् ।

बुत्तमाण देखो बुत्तमाण (कुप्र २२३)।

'बुर देखो पुर (अच्छु १६)।

'बुरिस देखो पुरिस = पुरुष (अउम ६५, ४५)।

बुद्धाह पु [दे] अथ की एक उत्तम जाति (सम्मत २१६)।

बुसह देखो वसभ (चार ७, गा ४६०, ८२०, नाट—सृच्छ १०)।

बुसि ब्री [वृषि] मुनि का आसन । 'राइ, राइअ वि [राजिन्] सयमी, जितेन्निअ, थ्यामी, साधु (निच्च १६)। देखो बुसि, बुसी।

बुसि वि [वृषिन्] सविग्न, साधु, सयमी, मुनि, 'बुसि सविगो भण्णिओ' (निच्च १६)।

बुसिम वि [वश्य] बस मे आनेवाला, अचाने होनेवाला, 'निस्सारिय बुसिम मन्नाणा' (निच्च १६)।

बुसी ब्री [वृषी] मुनि का आसन । 'म वि [मन्] सयमी, साधु, मुनि, 'एस धन्ने बुसीमओ' (सूअ १, ८, १६, १, ११, १३, १, १५, ४, उत्त ५, १८, सुख ५, १८)। देखो बुसि।

बुस्सग्ग देखो विओसग्ग, 'सच्चिआए पुप्फादयाए दब्बाए कुणइ बुस्सग्ग' (अ १४२, सबोध ५१, ५२)।

बूढ देखो बुद्ध = वृद्ध (सुपा ५१०, ५२०)।

बूढ वि [व्यूढ] १ धारण किया हुआ, 'सोआपरिमट्टेण व बूढो तेणवि एणरर रोमचो' (से १, ४२, घण २०, विचार २२६ एदि ५२)। २ बोया हुआ, मुणिएव्वो सील-भरो विअयपसत्ता तरति नो वोद्धु (प्रवि १७, स १६२)। ३ बहा हुआ, वेग में खिंचा

संक्रिष्ट देवो संक्रिलिष्ट (राज) ।
 संक्रिण्व वि [संक्रिण्व] १ सँकरा, तग, अत्या-
 वकाशवाला (पात्र, महा) । २ व्याप्त (राज) ।
 ३ मिश्रित, मिला हुआ (ठा ४, २, भग २५,
 ७ टी—पत्र ६१६) । ४ पु हाथी की एक
 जाति (ठा ४, २—पत्र २०८) ।
 संक्रित देवो संक्रिअ (खाया १, ३—पत्र
 ६४) ।
 संक्रित्त्वा न [संक्रित्त्वा] उच्चारण (स्वप्न
 १७) ।
 संक्रिन्न देवो संक्रिण्व (ठा ४, २, भग
 २५, ७) ।
 संक्रि वि [संक्रि] शब्दा करने की आदत
 वाला, शबाशील (गा २०६, ३३३, ५२२,
 मुर १२ १२५, सुपा ४६८) ।
 संक्रिलिष्ट वि [संक्रिलिष्ट] सक्लेश युक्त,
 मन्त्रेशाना (उग श्रौष, पि १३६) ।
 संक्रिलिस्त्वम शक [स + क्रि] १ क्लेश-
 पाना, दु खो होना । २ मलिन होना । संक्रि-
 लिम्बा, त्रिलिम्बसति (उत्त २६, ३४, भग,
 श्रौष) । वहु संक्रिलिस्त्वमाण (भग १३,
 १—पत्र ५६६) ।
 संक्रिले म पु [संक्रिले] १ असमाधि, दुःख,
 ऋ २ राजो (ठा १०—पत्र ८८९, उव) ।
 २ मनिनता, प्रियशुद्धि (ठा ३, ४—पत्र
 १५६, पना १५, ८) ।
 संक्रिलि वि [संक्रिलि] कील लगाकर
 जाण हुआ (न १८, २८) ।
 संक्रु [संक्रु] १ शल्य शक । २ कीलक,
 गूदा, तेल, 'प्रतोनितुसकुब्ज' (कुप्र ६०२,
 राम ३०, पापम) । ३ ऋण न [संक्रु] एक
 रिपापर-पार (२४) ।
 संक्रु वि [संक्रु] १ संकुचा हुआ,
 मना, प्रात (प्रात, २ना) । २ न संकोच
 (राज) ।
 संक्रु [संक्रु] १ संक्रुच पर्वत ती उत्तर
 देवी त पर्वत । धर निगम (राज) ।
 संक्रु [संक्रु] १ त्या विशेष (राज) ।
 संक्रु प [संक्रु] १ संक्रुना, संकोच
 नरा । संक्रु १ (प्रात, संकोच ४०) वहु
 संक्रु १, संक्रुमाग (प्राचा) ।

संक्रुचिय देवो संक्रुच्य (वस ४, १) ।
 संक्रुच वि [संक्रुच] सँकरा, संकोच, संक्रुचित,
 'अतो य संक्रुडा बाहि वित्यडा चदसुराण'
 (सुपज १६) ।
 संक्रुचिअ वि [संक्रुचिअ] संकुचा हुआ, संक्रु-
 चित (भग ७, ६—पत्र ३०७, धर्मस ३८७,
 स ३५८, सार ७८६) ।
 संक्रुचि वि [संक्रुचि] क्रोध-युक्त (वज्जा १०) ।
 संक्रुच देवो संक्रुच । संक्रुचि (वज्जा ३०) ।
 वहु संक्रुच्यत (वज्जा ३०) ।
 संक्रुचि वि [संक्रुचि] व्याप्त, पूर्ण भरा हुआ
 (से १, ५७, उव, महा, स्वप्न ५१, धर्मवि
 ५५, प्रासू १०) ।
 संक्रुचि } देवो संक्रुचि (पि ७४, ठा ४,
 संक्रुचि } ४—पत्र २२६, पव २६२, प्राचा
 २, १, ४, ५) ।
 संक्रुसुमिअ वि [संक्रुसुमित] अच्छी तरह
 पुष्पित (राय ३८) ।
 संक्रुअ सक [स + केतय] १ इशारा
 करना । २ मसलहत करना । संक्रु संक्रुइय
 जोगिणिमै' (सम्मत २१८) ।
 संक्रुअ पुं [संक्रुअ] १ इशारा, इगित (सुपा
 ४१५, महा) । २ प्रिय-समागम का
 गुप्त स्थान (गा ६२६, गउड) । ३ वि
 चिह्न युक्त । ४ न प्रत्याख्यान विशेष (भाव) ।
 संक्रुअ वि [संक्रुअ] १ संकेत-सवन्धी । २
 न प्रत्याख्यान विशेष (पव ८) ।
 संक्रुअ वि [संक्रुअ] संकेत-युक्त (धा
 १४, धर्मवि १३४, सम्मत २१८) ।
 संक्रुअ वि [संक्रुअ] संकेला हुआ, संक्रुचित
 किया हुआ (गा ६६४) ।
 संक्रुअ देवो संक्रुअ (उप ३१२, कम्म
 ५, ६३) ।
 संक्रुअ सक [स + क्रुचय] संक्रुचित
 करना । वहु संक्रुअत (सम्मत २१७) ।
 संक्रुअ पु [संक्रुअ] संकोच, सिमट (राय
 १८० टी, धर्मस ३६५, संकोच ४७) ।
 संक्रुअ न [संक्रुअ] संकोच, संकुचाना
 (दे ५, ३१, भग, मुर १, ७६, धर्मवि
 १०१) ।
 संक्रुअ वि [संक्रुअ] संक्रुचित किया
 हुआ, संकेला हुआ (उप ७२८ टी) ।

संक्रुच पु [संक्रुच] संकोचना, संकोच (पएह
 १, ३—पत्र ५३) ।
 संक्रुचणा स्त्री [संक्रुचना] ऊपर देवो
 (राज) ।
 संक्रुचिय वि [संक्रुचिय] संकोचा हुआ,
 संकोचित (पएह १, ३—पत्र ५३, विपा
 १, ६—पत्र ६८, स ७४१) ।
 संक्रु पुन [संक्रु] १ वाद्य-विशेष, शक (एदि,
 राय, जो १५, कुमा, दे १, ३०) । २ पुं.
 ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) ।
 ३ महाविदेह वर्ष का प्रान्त-विशेष, विजय-
 क्षेत्र विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । ४ नव
 निधि मे एक निधि, जिसमे विविध तरह के
 वाजो की उत्पत्ति होती है (ठा ६—पत्र
 ४४६, उप ६८६ टी) । ५ लवण समुद्र मे
 स्थित वेलन्धर-नागराज का एक आवास-पर्वत
 (ठा ४, २—पत्र २२६, सम ६८) । ६ उक्त
 आवास-पर्वत का अचिष्टाता एक देव (ठा ४,
 २—पत्र २२६) । ७ भगवान् मल्लिनाथ के
 समय का काशी का एक राजा (खाया १,
 ८—पत्र १४१) । ८ भगवान् महावीर के
 पास दीक्षा लेनेवाला एक काशी-नरेश (ठा
 ८—पत्र ४३०) । ९ तीर्थकर-नामकर्म उपा-
 जित करनेवाला भगवान् महावीर का एक
 श्रावक (ठा ६—पत्र ४५५, सम १५४, पव
 ४६, विचार ४७७) । १० नववें बलदेव का
 पूर्वजन्मीय नाम (पउम २०, १६१) । ११
 एक राजा (उप ७३६) । १२ एक राज-पुत्र
 (सुपा ५६६) । १३ रावण का एक सुभट
 (पउम ५६, ३४) । १४ छन्द-विशेष (पिग) ।
 १५ एक द्वीप । १६ एक समुद्र । १७ शकवर
 द्वीप का एक प्रचिष्टायक देव (दीव) । १८
 पुन ललाट की हड्डी (धर्मवि १७, हे १,
 १०) । १९ नवी नामका एक गन्ध-द्रव्य ।
 २० कान के समीप की एक हड्डी । २१ एक
 नाम-जाति । २२ हाथी के दाँत का मध्य
 भाग । २३ सख्या-विशेष, दस निखर्व की
 सख्यावाला (दे १, ३०) । २४ श्राव के
 समीप का श्रवण (खाया १, ८—पत्र
 १२३) । २५ देवो 'पुर (ती ३, महा) ।
 'गाभ पु [नाभ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष
 (सुपज २०) । 'गारी स्त्री [गारी] छन्द-

वेआरणिय वि [दे] प्रतारण-सम्बन्धी, ठगने से उत्पन्न (ठा २, १—पत्र ४०)।

वेआरणिय वि [वैचारणिक] विचार-सबधी (ठा २, १—पत्र ४०)।

वेआरिअ वि [दे] १ प्रतारित, ठगा हुआ (दे ७, ६५, पत्र १४, ४६, सुपा १५२)। २ पु वेश, बाल (दे ७, ६५)।

वेआल पु [वेताल] १ भूत-विशेष, विकृत पिशाच, प्रेत (पएह १, ३—पत्र ४६, गउड, महा, पिग)। २ छन्द-विशेष (पिग)।

वेआल वि [दे] १ श्रन्वा। २ पु अघकार (दे ७, ६५)।

वेआलग वि [विदारक] विदारण-कर्ता (सूअनि ३६)।

वेआलण न [विदारण] फाडना, चीरना (सूअनि ३६)।

वेआलि पु [वैतालिन] बन्दी, स्तुति पाठक (उप ७२८ टी)।

वेआलिअ देखो वइआलिअ (पाअ, हे १, १५२, वेइय ७४६)।

वेआलिय वि [वैक्रिय] विक्रिया से उत्पन्न (सूअ १, ५, २, १७)।

वेआलिय वि [वैकालिक] विकाल-सम्बन्धी, अपराह मे बना हुआ (दसनि १, ६, १५)।

वेआलिय न [विदारक] विदारण-क्रिया (सूअनि ३६)।

वेआलिय देखो वइआलीअ (सूअनि ३८)।

वेआलिया बी [वैतालिकी] बीरान-विशेष (जोव ३)।

वेआली बी [वैताली] १ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से अचेतन काष्ठ भी उठ खड़ा होता है—चेतन की तरह क्रिया करता है (सूअ २, २, २७)। २ नगरी विशेष (एयाया १, १६—पत्र २१७)।

वेइ बी [वेदि] परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा (कुमा, महा)।

वेइ वि [वेदिन] १ जाननेवाला (वेइय ११६, गउड)। २ अनुभव करनेवाला (पच ५, ११६)।

वेइअ वि [वेदित] १ अनुभूत (भग)। २ ज्ञात, जाना हुआ (दस ४, १, पत्र ६६, ३)।

वेइअ देखो वेविअ = वेपित (गा ३६२ अ)।
वेइअ वि [वैदिक] १ वेदाश्रित, वेद-सबन्धी (ठा ३, ३—पत्र १५१)। २ वेदो का जानकार (दसनि ४, ३५)।

वेइअ वि [वेगित] वेलावाला, वेग-युक्त (एयाया १, १—पत्र २६)।

वेइअ वि [व्येजित] १ कम्पित, कांपा हुआ (भग १ १ टी—पत्र १८)। २ कँपाया हुआ (राय ७४)।

वेइआ बी [दे] पनीहारी, पानी ढोनेवाली बी (दे ७, ७६)।

वेइआ बी [वेदिका] १ परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा (भग, कुमा, महा)। २ अणुलि-मुद्रा, अणुठी (दे ७, ७६ टी)। ३ वर्जनीय प्रतिलेखन का एक भेद, प्रत्युपेक्षणा का एक दोष (उत्त २६, २६, सुख २६, २६, श्रोधभा १६३)।

वेइज्ज अक [वि + एज्] कांपना। वक वेइज्जमाण (भग १, १ टी—पत्र १८)।

वेइज्जमाण देखो वेअ = वेदय।

वेइअ वि [दे] १ ऊंचा किया हुआ। २ विसस्थुल। ३ आविद्ध। ४ शिथिल (दे ७, ६५)।

वेइअ देखो विअइअ (हे १, १६६, २, ६८, कुमा)।

वेउठ देखो वेकुठ (गउड)।

वेउट्टिया बी [दे] पुन पुन, फिर-फिर (कण्प)।

वेउठ्व देखो विउठ्व = वि + क, कुर्व। सठ वेउठ्वऊण (सुपा ४२)।

वेउठ्व वि [वैक्रिय] १ विकृत, विकार-प्राप्त (विसे २५७६ टी)। २ देखो विउठ्व = वैक्रिय (कम्म ३, १६)। ३ लद्धि बी [लद्धि] शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर उत्पन्न करने का सामर्थ्य (पउम ७०, २६)।

वेउठ्वि देखो विउठ्वि (पएह २, १—पत्र ६६, कण्प, श्रौप, श्रोधभा ५७)।

वेउठ्विअ देखो विउठ्विअ = विकृत, विकृ-वित, वेउठ्विअ अणुइज्जवाल अइचिकण फासेण (स ७६२, सुपा ४७)।

वेउठ्विअ वि [वैक्रिय, वैक्रियिक, वैकुर्विक] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वरूपों और क्रियाओं

को करने में समर्थ शरीर (सम १४१, मा, द ८)। २ वैक्रिय शरीर बनाने की शक्तिवाला (सम १०३, पव—गाया ६)। ३ विकुर्वणा से बनाया हुआ, 'विमगिरिसमीवण एय वेउठ्विय च मह भवण' (सुपा १७८)। ४ वैक्रिय शरीरवाला (विसे ३७५)। ५ वैक्रिय शरीर से सबन्ध रखनेवाला (भग)। ६ विभू पित (भग १८, ५—पत्र ७४६)। ७ लद्धिअ वि [लद्धिक] वैक्रिय शरीर उत्पन्न करने की शक्तिवाला (भग)। ८ समुग्घाय पु [समुद्धात] वैक्रिय शरीर बनाने के लिए आत्म-प्रदेशो को बाहर निकालना (अत)। वेउठ्विय बी [दे] पुन पुन, फिर फिर (कण्प)।

वेकड पु [वेकड] दक्षिण देश में स्थित एक पर्वत (अच्छु १)। १ ग्राह पु [नाथ] विष्णु की वेकटाद्रि पर स्थित मूर्ति (अच्छु १)।

वेगी बी [दे] वृतिवाली, बाडवाली (दे ७, ४३)।

वेजण देखो वजण (प्राक् ३१)।

वेड देखो विट = वृत्त (गा ३५६, ह १, १३६, २, ३१, कुमा, प्राक् ४)।

वेडल देखो विडल (श्रोध ४२४)।

वेडली देखो विडलिआ, 'तमो तेण तस (करिया) पुरओ वेडलीकाऊण पक्खित-पुत्तरीय' (महा)।

वेडिआ देखो विडिया (श्रोध २०३, श्रोधभा ७६, उप १४२ टी, वव १)।

वेड पु [वेतण्ड] हाथी, हस्ती (प्राक् ३०)। देखो वेयड।

वेडपुरा बी [दे] कलुष मदिरा (दे ७, ७८)।

वेडि पु [दे] पशु (दे ७, ७४)।

वेडिअ वि [दे] वेष्टित, लपेटा हुआ (दे ७, ७६, महा)।

वेडल देखो विडल (पएह १, ३—पत्र ४५, पउम ५, १६२)।

वेकअअ देखो वेअच्छ, 'वेकअअत्तरीअ' (कुमा)।

वेकअच्छया } देखो वेगअच्छया (माअभा
वेकअच्छी } २१८, श्रोध ६७७)।

वेकिञ्जिअ न [दे] रोमन्थ, नवी हुई चीन को फिर से चवाना (दे ७, ८२)।

सन्तुष्टुण न [रमण] क्रीडा, सुरत-क्रीडा (कुमा)।

सखुत्त (अप) नीचे देखो (भवि)।

सखुत्त वि [सखुत्त] क्षोभ-प्राप्त (स ५६८, ६७६, सम्पत्त १५६, सुपा ५१७, कुप्र १७८)।

संगुभिम } वि [सशुद्ध, सक्षुभित]
सगुहिय } ऊपर देखो (सम १२५, पव २७२, पञ्च ३३, १०६, पि ३१६)।

सरेज्ज देवो मग्गा = स + ह्या।

सरेज्ज } देवो सरिज्जइ (अणु ६१,
समेज्जम } निसे ३६०)।

सखेत्त देवो सत्तित्त (ठा ४ २—पत्र २२६, चेइय ३२५)।

सवेव पु [सवेव] १ अर्थ, कम, थोडा (जी २५, ५१)। २ मित्र, सघात, सहति (शोधभा १)। ३ त्वान, तेरसमु जीवसखेवणु' (कम्म ६ ३५)। ४ सामायिक, नम भाव से अन्व-स्थान (विम २७६६)।

सरेवण न [सवेवण] अर्थ करना, न्यून करना (न २८)।

सरेवण वि [सवेवण] सवेव-युक्त। 'दमा खी व [दमा] जैन शब्द-विशेष (ठा १०—पत्र ५ ५)।

सगोभ } रक [स + क्षोभय] धुत्त
सगोभ } करना। नरोहर (भवि)। कवक
सगोभज्जमाण (णया १, ६—पत्र १५६)।

सगोभ पु [सगोभ] १ नम आदि ने उत्पन्न
चित्त से व्यपना, वाम (उर, मुर २, २२,
उरु १३, ३, ३, मि ६६, गडड)। २
पानना (गड)।

सगोभित्ति वि [सगोभित] धुत्त रिया
दुमा जाम-युत्त किया हुआ (मि १, ६६,
पति ६०)।

सग न [सग] १ नीच, गिणण (धर्मन ६३,
६३)। २ वरग (कुमा)। ३ पत्र के ऊपर
रा नाच, टि। ४ प्रानता, पुस्तता। ५
पदवि। ६ नाम का उद्ग (हे १,
११)। ७ नाम निन = गृह।

सग न [ग्राह] शृङ्ग-सबन्धी (विसे २८६)।

सग पुन [सङ्ग] १ सपक, सबन्ध (ग्राचा,
महा, कुमा)। २ सोहवत, 'तह हीणायारज-
इजणसग सङ्गाण पडिसिद्ध' (सवोध ३६,
ग्राचा, प्रसू ३०)। ३ आसक्ति, विषयादि-राग
(गडड, ग्राचा, उव)। ४ कर्म, कर्म-बन्ध
(ग्राचा)। ५ बन्धन, 'भोगा इमे सगकरा हवति'
(उत्त १३, २७)।

सगइ खी [सगति] १ श्रौचित्य, उचितता
(सुपा ११०)। २ मेल (भवि)। ३ नियति
(सूत्र १, १, २, ३)।

सगइअ वि [साङ्गति] १ नियति-कृत,
नियति सबन्धी (सूत्र १, १, २, ३)। २
परिचित्त, सुही ति वा सहाए ति वा सग(?)
गद)ए ति वा' (ठा ४, ३—पत्र २४३,
राज)।

सगथ पु [सग्रथ] १ स्वजन का स्वजन,
सगे का सगा (ग्राचा)। २ सबन्धी, श्वशुर-
कुल से जिसका सबन्ध हो वह (पएह २,
४—पत्र १३२)।

सगच्छ सक [स + गम्] १ स्वीकार
करना। २ अक सगत होना, मेल रखना।
सगच्छइ (चेइय ७७६, पड), सगच्छह (स
१६)। ३ सगमणीअ (नाट—विक्र १००)।

सगच्छण न [सगमन] स्वीकार, अगीकार
(उव ६३०)।

सगम पु [सगम] १ मेल, मिलाप (पात्र,
महा)। २ प्राप्ति, 'सग्गापवगसगमहेऊ जिण-
देसिओ धम्मो' (महा)। ३ नदी-मीलक,
नदियों का आपस में मिलान (णया १,
१—पत्र ३३)। ४ एक देव का नाम (महा)।
५ खी पुष्प का समोह (हे १, १७७)।
६ एक जैन मुनि का नाम (उव)।

सगमय पु [सगमय] भगवान् महावीर को
उपसर्ग करनेवाला एक देव (चेइय २)।

सगमी खी [सगमी] एक दूती का नाम
(महा)।

सगय वि [सग] मरण, चिकना (दे ८, ७)।

सगय न [सगत] १ मित्रता, मैत्री (सुर ६,
२०६)। २ सग, नोत्पत्त (उर, कुप्र १३४)।
३ पु एत जैन मुनि का नाम (पुष्क १८२)।
४ वि युक्त, उचित (विपा १, २—पत्र

२२)। ५ मिलित, मिला हुआ (प्राम् ३१,
पचा १, १, महा)।

सगयय न [सगतक] छन्द-विशेष (अजि
७)।

सगर देखो संकर = सकर (विसे २८८४)।

सगर न [र गर] युद्ध, रण, लडाई (पात्र,
काप्र १६३, कुप ७३, धर्मवि ६३, हे ४,
३४५)।

सगरिगा खी [दे] फली-विशेष, जिसकी
तरकारी होती है, साँरी (पव ४—गाथा
२२६)।

संगल सक [स + घटय] मिलना,
सघटित करना। संगलइ (हे ४, ११३)।
सक संगलिय (कुमा)।

संगल अक [स + गल] गल जाना, हीन
होना। वक्क सगलत्त (सि १०, ३४)।

सगलिया खी [दे] फली, फलिया, खीमी
(भग १५—पत्र ६८०, अनु ४)।

संगह सक [स + ग्रह] १ संचय करना।
२ स्वीकार करना। ३ आश्रय देना। सगहइ
(भवि)। भवि सगहिस्सं (मोह ६३)।

सगह पु [दे] घर के ऊपर का तिरछा काठ
(दे ८, ४)।

सगह पु [सग्रह] १ सचय, इकट्ठा करना,
बटोरना (ठा ७—पत्र ३८५, वव ३)। २
संक्षेप, समास (पात्र, ठा ३, १ टी—पत्र
११४)। ३ उपधि, बद्ध आदि का परिग्रह
(शोध ६६६)। ४ नय-विशेष, वस्तु-परोक्षा
का एक दृष्टिकोण, सामान्य रूप से वस्तु की
देखना (ठा ७—पत्र ३६०, विसे २२०३)।

५ स्वीकार, ग्रहण (ठा ८—पत्र ४२२)।
६ कष्ट आदि से सहायता करना (ठा १०—
पत्र ४६६)। ७ वि सग्रह करनेवाला (वव
३)। ८ न नक्षत्र विशेष, दुष्ट ग्रह से आक्रान्त
नक्षत्र (वव १)।

सगहण न [सग्रहण] सग्रह (विसे २२०३,
सवोध ३७, महा)। 'गाहा खी [गाथा]
सग्रह गा म (कप्प ११८)। देखो सगिण्हण।

सगहणि खी [सग्रहणि] सग्रह-ग्रन्थ, ससिपत्त
रूप से पदार्थ प्रतिपादक ग्रन्थ, सार-सग्राहक
ग्रन्थ (सग १, धर्मस ३)।

वेढण न [वेष्टन] लपेटना (सि १, ६०, ६, ४३; १२, ६५, गा ५६३, धर्मस ४६७)।

वेढिअ वि [वेष्टित] लपेटा हुआ (उव, पात्र, सुर २, २३८)।

वेढिम वि [वेष्टिम] १ वेष्टन से बना हुआ (परह २, ५—पत्र १५०, णाय १, १३—पत्र १७८, श्रौप)। २ पुष्पी खाद्य-विशेष (परह २, ५—पत्र १४८, राज)।

वेण पु [दे] नदी का विषम घाट (दे ७, ७४)।

वेण (अप) देखो वयण = वचन (हे ४, ३२६)।

वेणइअ न [वेनयिक] १ विनय, नम्रता (ठा ५, २—पत्र ३३१, वस ६, १, १२, सट्टि १०६ टी)। २ मिथ्यात्व-विशेष, सभी देवो और धर्मों को सत्य मानना (सवीध ५२)। ३ वि विनय-सबन्धी (सम १०६, भग)। ४ विनय को ही प्रधान माननेवाला, विनय-वादी (सुप्र १, ६, २७)। ५ वाद पु [वाद्] विनय को ही मुख्य माननेवाला दर्शन (धर्मस ६६५)।

वेणइगी } स्त्री [वैनयिकी] विनय से प्राप्त
वेणइया } होनेवाली बुद्धि (उप पु ३४०, णाय १, १—पत्र १११)।

वेणइया स्त्री [वैणकिया] लिपि-विशेष (सम ३५, परण १—पत्र ६२)

वेणा स्त्री [वेणा] महर्षि स्थूलभद्र की एक भगिनी (कप्प, पडि)।

वेणि स्त्री [वेणी] १ एक प्रकार की केश-रचना, बालों की गुथी हुई चोटी (उवा)। २ वाद्य-विशेष (सण)। ३ गंगा और यमुना का संगम-स्थान (राज)। ४ वच्छराय पु [वत्सराज] एक राजा (कुप्र ४४०)।

वेणिअ न [दे] वचनीय, लोकापवाद (दे ७, ७५, षड्)।

वेणी स्त्री [वेणी] देखो वेणि (से १, ३६, गा २७३, कप्प)।

वेणु पु [वेणु] १ वश, बांस (पात्र, कुमा, पड्)। २ एक राजा (कुमा)। ३ वाद्य-विशेष, बसी (हे १, २०३)। ४ दालि पु [दालि] एक इन्द्र, सुपर्णकुमार देवो का उत्तरदिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८४,

इक)। ५ देव पु [देव] १ सुपर्णकुमार-नामक देव जाति का दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८४)। २ देव-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६७, ७६)। ३ गण्ड पक्षी (सुप्र १, ६, २१)। ४ याणुजाय पु [कानुजाय] गणितशास्त्र-प्रसिद्ध दस योगो मे द्वितीय योग, जिसमे चन्द्र, सूर्य और नक्षत्र वशाकार से अवस्थान करते हैं (सुज १२—पत्र २३३)।

वेणुणास } पु [दे] अमर, भौरा (दे ७,
वेणुसाअ } ७८, षड्)।

वेणव वि [दे] ब्राह्मन् (षड्)।

वेणवा स्त्री [वेत्रा] नदी-विशेष। १ यड न [तट] नगर-विशेष (पउम ४८, ६३, महा)।

वेणहु देखो विणहु (सधि ३, प्राक् ५)।

वेताली स्त्री [दे] १ तट, किनारा, 'जन्म नावा पुण्ववेतालीचवाहिणवेतालि जलपहेरां गच्छति' (परण १६—पत्र ४८०)। २ गली (आव ० वृ० पत्र ३५५)।

वेत्त न [दे] स्वच्छ वस्त्र (दे ७, ७५)।

वेत्त पु [वेत्त] वृक्ष-विशेष, बेंत का गच्छ (परण १—पत्र ३३, विपा १, ६—पत्र ६६)। १ सण न [सन्] बेंत का बना हुआ आसन (पउम ६६, १४)।

वेत्तव्व वि [वेत्तव्व] जानने योग्य (प्राप्र)।

वेत्तिअ पु [वैत्तिक] द्वारपाल, चपरासी (सुपा ७३)।

वेत्त देखो वेअ = वेदय्। वेदेइ, वेदत्ति, वेदंति (भग, सुप्र १, ७, ४, ठा २, ४—पत्र १००), वेदेज (धर्मस १६६)। भूका वेदंयु (ठा २, ४, भग)। भवि, वेदिस्सत्ति (ठा २, ४, भग)। कवक्क देदेज्जमाण (ठा १०—पत्र ४७२)।

वेत्त देखो वेअ = वेद (परह १, २—पत्र ४०, धर्मस ८६२)।

वेदत्त देखो वेअत्त (धर्मस ८६३)।

वेदक } देखो वेअग (परह १, २—पत्र
वेदगा } २८, धर्मस १६६)।

वेदणा देखो विअणा (भग, स्वप्न ८०, नाट—मालवि १४)।

वेदकभी स्त्री [वैदभी] प्रद्युम्न कुमार की एक स्त्री का नाम (अत १४)।

वेदस (शौ) देखो वेडिस (प्राक् ८३, नाट—शकु ६८)।

वेदि देखो वेइ = वेदि (पउम ११, ७३)।

वेदिग पु [वेदिक] एक इन्ध मनुष्य-जाति, 'अबुवा य कलदा य वेदेहा वेदिगात्तिता (? इया)।

हरिता चुट्टुणा वेव

छप्पेता इन्धजाइयो।

(ठा ६—पत्र ३५८)।

वेदिय देखो वेइअ = वेदित (भग)।

वेदिस न [वैदिश] विदिशा की तरफ का नगर (अणु १४६)।

वेदुलिय देखो वेकलिय (चड)।

वेदूणा स्त्री [दे] लजा, शरम (दे ७, ६५)।

वेदेसिय देखो वइदेसिअ (राज)।

वेदेह पु [वैदेह] एक इन्ध मनुष्य-जाति (ठा ६—पत्र ३५८)। देखो वइदेह।

वेदेहि पु [विदेहिन्] विदेह देश का राजा (उत्त ६, ६२)।

वेधम्म देखो वइधम्म (धर्मस १८५)।

वेधव्व देखो वेहव्व (मोह ६६)।

वेन्ना देखो वेणणा (उप पु ११५)।

वेत्प वि [दे] भूत आदि से गृहीत, पाणल (दे ७, ७४)।

वेत्पुअ न [दे] १ शिशुपन, वचपन। २ वि, भूत-गृहीत, भूताविष्ट (दे ७, ७६)।

वेफल्ल न [वैफल्य] निष्फलता (विसे ४१६, धर्मस २२, अज्ज १३३)।

वेडमल वि [विह वल] व्याकुल (प्राप्र)।

वेडमार } पु [वेमार] पर्वत विशेष, राजगृही
वेमार } के समीप का एक पहाड़ (णाय १, १—पत्र ३३, सिरि ४)।

वेम देखो वेमय। वेमइ (प्राक् ७४)।

वेम पु [वेमन्] तनुवाय का एक उपकरण (विसे २१००)।

वेमइअ वि [अग्न] भागा हुआ (कुमा ६, ६८)।

वेमणस्स न [वैमनस्य] १ मनप्रदाय, भीतरी द्वेष (उव)। २ दैन्य, दोनता (परह १, १—पत्र ५)।

सघट्टिय वि [सघट्टित] १ स्रुट, कृष्णा
दृग्ना (गाया १, ५—पत्र ११२, पङ्क्ति) ।
२ सघापित, समदित (भग १९, ३—पत्र
७६६, ७६७) ।

सघट्ट ग्रह [स + घट्ट] १ प्रयत्न करना ।
२ सघट्ट होना, युक्त होना । कृ सघट्टियव्य
(ठा ८—पत्र ४४१) । प्रयो सघट्टावेइ
(महा) ।

सघट्ट वि [संघट्ट] निरन्तर, 'सघट्टदसिणो'
(भाचा १, ४, ४, ४) ।

सघट्टण देखो मघयण (चड—पृ ४८, प्रवि) ।
सघट्टणा छो [सघट्टना] रचना, निर्माण
(समु १५८) ।

सघट्टिअ वि [सघट्टित] १ सवद्ध, युक्त
(से ४, २४) । २ गठित, जटित (प्रासू २) ।

सघट्टि (शौ) छो [सहति] समूह (वि
२६७) ।

सघयण न [दे सहनन] १ शरीर, काय
(दे ८, १८, पात्र) । २ ग्रस्थि रचना, शरीर,
के हाटों की रचना, शरीर का बाँध (भग,
सम १६६, १५५, उव, श्रोप, उवा, कम्म
१, ३८, पट्ट) । ३ कर्म-विशेष, ग्रस्थि-
रचना का कारण भूत कर्म (सम ६७, कम्म
१, २४) ।

सघयणि वि [दे सहननिन्] सहनन-
वाला (गम १५५, मणु ८ टी) ।

सघारिस देखो मघस (उप २६४ टी) ।

सघारिसिद (शो) वि [सघापित] सघप-युक्त,
पिना दृग्ना (मा -७) ।

सघस नन [स + घट्ट] सघप करना ।
संघसिअ (भाचा २, १, ७, १) ।

सघस्सिअ दग्गो सघारिसिद (नाट—मालवि
२.) ।

सघाट्टा वि [सघातित] १ सघात रूप ने
विपन्न (ग ३, ६१) । २ जोडा दृग्ना
(घार) । ३ स्रुट किया दृग्ना (पट्टि) ।

सघाट्टम वि [सघातम] जार देगा (श्रोप,
घारा २, १०) । वि ६०२, मणु १२,
गति २, १७) ।

सघाट्टा सघाट्टा वि [सघात] (पापना ०२,
गति)

सघाड } पु [दे सघाट] १ युग्म,
सघाडग } युगल (राय ६६, धर्मस १०६५,
उप पृ ३६७, सुपा ६०२, ६२३, श्रोष
४११, उप २७५) । २ प्रकार भेद, 'सघाडो
ति वा लय ति वा पगारो ति वा एगट्टा'
(निचू) । ३ ज्ञाताधर्म-कथा नामक जैन भ्रग-
ग्रन्थ का दूसरा अध्येयन (सम ३६) ।

सघाडग देखो सिघाडग (कम्प) ।

सघाडगा छो [सघट्टना] १ सवन्ध । २
रचना 'अक्खरखुणमत्तिसघाय (? ड)णाए'
(सूत्रनि २०) ।

सघाडो छो [दे सघाटा] १ युग्म, युगल
(दे ८, ७, प्राकृ ३८, गा ४१६) । २
उत्तरीय वस्त्र-विशेष (टा ४, १—पत्र १८६,
गाया १, १६—पत्र २०४, श्रोष ६७७,
विसे २३२६, पत्र ६२, कस) ।

सघाणय पु [शिङ्गानक] श्लेष्मा, नाक में
से बहता द्रव पदार्थ (तदु १३) ।

सघातिम देखो सघाइम (गाया १, ३—पत्र
१७६, परह २, ५—पत्र १५०) ।

सघाय सक [स + घातय] १ सहल करना,
इकट्टा करना, मिलाना । २ हिंसा करना,
मारना । सघायइ, सघाएइ (कम्म १, ३६,
भग ५, ६—पत्र २२६) । कृ सघायणिज्ज
(उत्त २६, ५६) ।

सघाय पु [सघात] १ सहति, सहत रूप से
अवस्थान, निविडता (भग, दम ४, १) । २
समूह, जत्या (पात्र, गउड, श्रोप, महा) ।
३ सहनन-विशेष, वज्र-रूपम नाराच नामक
शरीर-बन्ध, 'सघाएण सठाएण' (श्रोप) ।
४ श्रुतज्ञान का एक भेद (कम्म १, ७) ।
५ सकोच, सकुचाना (भाचा) । ६ न
नामकम-विशेष, जिस कर्म के उदय से शरीर-
योग्य पुद्गल पूर्व-गृहीत पुद्गलों पर व्यवस्थित
रूप से स्थापित होते हैं (कम्म १, ३१,
३६) । 'समास पु [समास] श्रुतज्ञान
का एक भेद (कम्म १, ७) ।

सघायण न [सघातन] १ विनाश, हिंसा
(स १००) । २ देगा 'सघाय' का छठवा
अर्थ (कम्म १, २८) ।

सघायणा छो [सघातना] सहति । °करण

न [°करण] प्रदेशो को परस्पर सहत रूप
से रखना (विसे ३३०८) ।

सघार पु [सहार] १ बहु-जतु-क्षण, प्रलय
(तदु ४५) । २ नाश (पउम ११८, ८०,
उप १३६ टी) । ३ सक्षेप । ४ विसर्जन ।
५ नरक-विशेष । ६ भैरव-विशेष (हे १,
२६४, षड्) ।

सघार (अप) देखो सहूर = स + ह । सङ्क.
सघारि (पिंग) ।

सघारिय वि [सहारित] मारित, व्यापादित
(भवि) ।

सघासय पु [दे] स्पर्धा, बराबरी (दे ८,
१३) ।

सधिअ देखो सधिअ = सहित (प्राप) ।

सधिल्ल वि [सघवत्] सघ-युक्त, समुदित
(राज) ।

सघोडो छो [दे] व्यतिकर, सवन्ध (दे ८,
८) ।

सच (अप) देखो सचिण । सचइ (भवि) ।

संच (अप) पु [संचय] परिचय (भवि) ।

सचइ } वि [सचयिन्] संचयवाला,
सचइग } सग्रही, सग्रह करनेवाला, (दसनि
१०, १०, पव ७३ टी) ।

सचइय वि [सचयित] संचय-युक्त (राज) ।

सचक्कार पु [दे] अक्काश, जगह,
'अविगणिय कुलकलंके इय
कुहियकरककारणे कीस ।
वियरसि सचक्कार त
नारयतिरियदुक्खाएण ॥'
(उप ७२८ टी) ।

सचत्त वि [सत्यक्त] परित्यक्त (अज्ज
१७८) ।

सचय पु [सचय] १ सग्रह (परह १, ५—
पत्र ६२, गउड, महा) । २ समूह (कम्म,
गउड) । ३ मकलन, जोड (वज्र १) ।

'मास पु [मास] प्रायश्चित्त-सवन्धो मास-
विशेष (राज) ।

सचर सक [स + चर] १ चलना, गति
करना । २ मय्यगु गति करना, अच्यो तरह
चलना । ३ धीरे धीरे चलना । संचरइ
(गउड ४२६, भवि) । वङ्क सचरत (सि २,

वासकरिला, वनस्पति-विशेष (दस ५, २, २१)।

वेल्लुरिअ } देखो वेरुलिअ (प्राप्र, पि २४१,
देल्लुलिअ } दे ७, ७७)।

वेल्लूणा ली [दे] लज्जा, लाज (दे ७, ६५)।

वेल्ल अक [वेल्ल] १ कापना। २ लेटना।
३ सक कपाना। ४ प्रेरना। वेल्लइ (पि
१०७)। वेल्लति (गउड)। वक्क वेल्लत,
वेल्लमाण (गउड, हे १, ६६, पि १०७)।

वेल्ल अक [रम्] क्रीडा करना। वेल्लइ (हे
४, १६८)। क वेल्लणिज्ज (कुमा ७, १४)।

वेल्ल पु [दे] १ केश, बाल। २ पल्लव। ३
विलास (दे ७, ६४)। ४ मदन-वेदना, काम-
पीडा। ५ वि अविदग्ध, मूर्ख (सकि ४७)।
६ न देखो वेल्लग (सुपा २७६)।

वेल्लइअ देखो वेल्लाइअ (षड्)।

वेल्लग न [दे] १ एक तरह की गाड़ी, जो
ऊपर से ढकी हुई होती है, गुजराती में
'वेल'। २ गाड़ी के ऊपर का तला (शा
१२)।

वेल्लण न [वेल्लन] प्रेरणा (गउड)।

वेल्लय देखो वेल्लग (सुपा २८१, २८२)।

वेल्लरिअ पुं [दे] केश बाल (षड्)।

वेल्लरिआ ली [दे] वल्ली, लता (षड्)।

वेल्लरी ली [दे] वेश्या, वारागना (दे ७,
७६, षड्)।

वेल्लविअ देखो वेल्लिअ (से १, २६)।

वेल्लविअ वि [दे] विलिप्त, पीता हुआ (से
१, २६)।

वेल्लहल्ल } वि [दे] १ कोमल, मुटु (दे ७,
वेल्लहल्ल } ६६, षड्, गउड, सुपा ५६२,
स ७०४)। २ विलासी (दे ७, ६६, षड्,
सुपा ५२)। ३ सुन्दर (गा ५६८)।

वेल्ला ली [दे] वल्ली लता, वल्ली (दे ७,
६४)।

वेल्लालअ वि [दे] सकुचित, सकुचा हुआ (दे
७, ७६)।

वेल्लि देखो वल्लि (उव, कुमा)।

वेल्लिअ वि [वेल्लिअ] १ कपया हुआ (से ७,
५१)। २ प्रेरित (से ६, ६५)।

वेल्लिर वि [वेल्लिर] कपनेवाला (गउड)।

वेल्ली देखो वेल्लि (गा ८०२, गउड)।

वेव अक [वेप्] कापना। वेवइ (हे ४,
१४७, कुमा, षड्)। वक्क वेवत, देवमाण
रभा, कप्प, कुमा)।

वेवज्झ न [वैवाह] विपाह, शादी (राज)।

वेवण्ण न [वैवण्य] फीकापन (कुमा)।

वेवय पुन [वेपक] रोग-विशेष, कम्प
(आचा)।

वेवाइअ वि [दे] उल्लसित, उल्लास-प्राप्त
(दे ७, ७६)।

वेवाहिअ वि [वैवाहिक] सवन्धी, विवाह-
संबन्धवाला (सुपा ४६६, कुप्र १७७)।

वेविअ वि [वेपित] १ कम्पित (गा ३६२,
पाय)। २ पु एक नरक-स्थान (देवेन्द्र २७)।

वेचिर वि [वेपित्त] कापनेवाला (कुमा, हे २,
१४५, ३, १३५)।

वेव्व अ [दे] आमन्त्रण-सूचक अव्यय (हे
२, १६४, कुमा)।

वेव्व अ [दे] इन अर्थों का सूचक अव्यय—
१ भय, डर। २ वारण, रुकावट। ३ विपाद,
खेद। ४ आमन्त्रण (हे २, १६३, १६४,
कुमा)।

वेस पु [वेप] शरीर पर वज्र आदि की सजा-
वट (कप्प, स्वप्न ५२, सुपा ३८६, ३८७,
गउड, कुमा)।

वेस वि [व्येष्य] विशेष रूप से वाछनीय
(वव ३)।

वेस पु [वेप] १ विरोध, वैर। २ घृणा,
अप्रीति (गउड, भवि)।

वेस वि [वेष्य] वेपोचित, वेप के योग्य
(भग २, ५—पत्र १३७, सुज्ज २०—
पत्र २६१)।

वेस वि [वेष्य] १ द्वेष करने योग्य, अप्री-
तिकर (पउम ८८, १६, गा १२६, सुर २,
२०८, दे १, ४१)। २ विरोधी, शत्रु, दुश्मन
(सुपा १५२, उव ७६८ टी)।

वेस देखो वइस्स = वैश्य (भवि)।

वेसइअ वि [वैषयिक] विपय से सवन्ध
रखनेवाला (पि ६१)।

वेसपायण देखो वइसपायण (हे १, ११२,
षड्)।

वेसभ पु [विश्रम्भ] विश्र्वास (पउम २८,
५४)।

वेसभरा ली [दे] गृहगोधा, छिपकली (दि
७, ७७)।

वेसक्खिज्ज न [दे] द्वेष्यत्व, विरोध,
दुश्मनाई (दे ७, ७६)।

वेसण न [दे] ध्वनीय, लोकापवाद (दे
७, ७५)।

वेसण न [वेषण] जीरा आदि मसाला
(पिड ५४)।

वेसण न [वेसन] चना आदि द्विदल—दाल
का आटा। वेसन (पिड २५६)।

वेसमण पु [वैश्रमण] १ यशराज, कुवेर
(पाय, खाय्या १, १—पत्र ३६, सुपा
१२८)। २ इन्द्र का उत्तर दिशा का लोकागल
(सम ८६, भग ३, ७—पत्र १६६)। ३

एक विद्यावर नरेश (पउम ७, ६६)। ४
एक राजकुमार (विपा २, ३)। ५ एक

शेठ का नाम—(सुपा १२८, ६२७)। ६

अहोरात्र का चौदहवां मूर्त (सुज १०, १३,
सम ५१)। ७ एक देव-विमान (वेद
१४४)। ८ क्षुद्र हिमवान् आदि पर्वतों के

शिखरों का नाम (ठा २, ३—पत्र ७०,
८०, ८—पत्र ४३६, ६—पत्र ४५४)।

°काइय पु [°कायिक] वैश्रमण की आत्मा
में रहनेवाली एक देव-जाति (भग ३, ७—
पत्र १६६)। °दत्त पु [°दत्त] एक राजा

का नाम (विपा १, ६—पत्र ८८)।

°देवकाइय पु [°देवकायिक] वैश्रमण के
अधोमनस्य एक देव-जाति (भग ३, ७—पत्र
१६६)। °पभ पु [°प्रभ] वैश्रमण के

उत्पात-पर्वत का नाम (ठा १०—पत्र ४८२)।

°भइ पु [°भइ] एक जैन मुनि (विपा
२, ३)।

वेसम्म न [वैपम्य] विपमता, असमानता
(अज्ज ५, पव २१६ टी)।

वेसर पुली [वेसर] १ पल्ल विरोध (पइ
१, १—पत्र ८)। २ अश्वतर, खच्चर।
ली °री (सुर ८, १६)।

सजमिज्जति (गड २८६)। वक्क सजमेत, सजमयन, सजममाण (गड ८४०, दसि १, १९०, उत्त १८, २६)। कवक्क सजमोअमाण (नाट—विक्र ११२)। सक्क सजमित्ता (सूत्र १, १०, २)। हेक्क सजमित्त (गड ४८७)। क्क. सजमिअव्व, सजमितव्व (भग. णाया १, १—पत्र ६०)।

सजम सक [दे] छिपाता। सजमेसि (दे ८, १५ टी)।

सजम पु [सयम] १ चारित्र, व्रत, विरति, हिसादि पाप-कर्म से निवृत्ति (भग. ठा ७, श्रौप कुमा, महा)। २ शुभ अनुष्ठान (कुमा ७, २२)। ३ रक्षा, अहिंसा (णाया १, १—पत्र ६०)। ४ इन्द्रिय निग्रह। ५ वनवन। ६ नियन्त्रण कानू (हे १, २४५)। सजम पु [सयम] श्रावक-व्रत (श्रौप)।

सजमण न [सयमन] ऊपर देखो (धर्मवि १७ गा २६१, सुपा ५५३)।

सजमिअ वि [दे] सगोपित, छिपाया हुआ (दे ८ १५)।

सजमिअ वि [सयमित] बाधा हुआ, बद्ध (गा ६४६, सुर ७, ५, कुम १८७)।

सजय अक [स + यन्] १ सम्यक् प्रयत्न करना। २ सक अच्छी तरह प्रवृत्त करना। सजयए सजए (पत्र ७२, उत्त २, ४)।

सजय वि [सयत] साधु मुनि व्रती (भग. श्रौपभा १७, बाल), 'ममावि मायावित्ताणि सनयाणि' (महा)। 'पता वी [प्रान्ता] साधु ते उदर करेवाली देवी प्रादि (श्रौपभा ३७ टी)। 'भद्रिगा वी [भद्रि-] साधु की अनुहूल रहनेवाली देवी प्रादि (श्रौपभा १७ टी)। 'सजय वि [सयत] गिरी भ्रम मे व्रती और किसी भ्रम, प्रवृत्ति आपक (भग)।

सजय ! [सजर] नगवान् महावीर के पान से मा लेगना एक राता (ठा ८—पत्र ६३)।

सजय न पु [सजयन्त] एक जैन मुनि (पत्तम १, २१)। 'पुर न [पुर] नगर-विशेष (२१)।

सजर पु [सज्वर] ज्वर, बुलार (अच्छु ६७)।

सजल अक [स + जल] १ जलना। २ आक्रोश करना। ३ क्रुद्ध होना। सजले (सूत्र १, ६, ३१, उत्त २, २४)।

सजलग वि [सज्वलन] १ प्रतिक्षण क्रोध करनेवाला (सम ३७)। २ पु कषाय-विशेष (कम्म १, १७)।

सजलिअ पु [सज्वलिन] तीसरी नरक भूमि का एक नरक-स्थान (देवेन्द्र ६)।

सजलिअ (अप) वि [सज्वलित] आक्रोश-युक्त (भवि)।

सजय देखो सजम = स + यम्। सजयहु (अप) (भवि)।

सजय देखो सजम = (दे)। सजयइ (प्राक् ६६)।

सजविअ देखो सजमिअ = (दे) (पाप्र, भवि)।

सजविअ देखो सजमिअ = सयमित (भवि)।

सजा देखो सणा (हे २, ८३)।

सजाणय वि [सजायक] विज्ञ, विद्वान्, जानकार (राज)।

सजात } देखो सजाय = सजात (सुर २, सजाद } ११४, ४, १६०, प्राप्र, पि २०४)।

सजाय अक [स + जन्] उत्पन्न होना। सजायइ (सण)।

सजाय वि [सजात] उत्पन्न (भग, उवा, महा, सण, पि ३३३)।

सजोवणी वी [सजोवनी] १ मरते हुए को जीवित करनेवाली श्रौपवि (प्रासू ८३)। २ जीवित-दात्री नरक-भूमि (सूत्र १, ५, २, ६)।

सजोवि वि [सजोविन्] जिलानेवाला, जीवित करनेवाला (कप्पू)।

सजुअ वि [सयुत] सहित, सयुक्त (द्र २२, सिन्हा ४८, सुर ३, ११७, महा)। देखो सजुत।

सजुअ न [सयुग] १ लडाई, युद्ध, सग्राम (पाप्र)। २ नगर-विशेष (राज)।

सजुअ क [स + युज्] जोडना। कर्म 'मनिचिट्टे सन्नावे जलेए सजुअ(?) व)ती

जहा वत्थ' (धर्मस १८०)। कवक्क. सजुज्जत (सम्म ५३)।

सजुत न [सयुत] छन्द-विशेष (पिंग)। देखो सजुअ = सयुत।

सजुता वी [सयुता] छन्द-विशेष (पिंग)।

सजुत्त वि [सयुक्त] सयोगवाला, जुडा हुआ (महा, सण, पि ४०४, पिंग)।

सजुत्ति वी [दे] तैयारी (सुर ४, १०२, १२, १०१, स १०२, कुप्र २००)। देखो सजत्ति।

सजुद्ध वि [दे] स्पन्द-युक्त थोडा हिलने-चलनेवाला, फरकनेवाला (दे ८, ६)।

सजूह पुन [सयूथ] १ उचित समूह (ठा १०—पत्र ४६५)। २ सामान्य, साधारणता। ३ सक्षेप, समास (सूत्र २, २, १)। ४ ग्रन्थ-रचना, पुस्तक निर्माण (अणु १४६)। ५ ईष्टिवाद के अठारसी सूत्रों में एक सूत्र का नाम (सम १२८)।

सजोअ सक [स + योजय्] सयुक्त करना, सबद्ध करना, मिश्रण करना। सजोएइ, सजोयइ (पिंड ६३८, भग, उवा, भवि)। वक्क सजोयत (पिंड ६३६)। सक्क. सजो-एऊण (पिंड ६३६)। क्क संजोएअव्व (भग)।

सजोअ सक [स + हस्] निरीक्षण करना, देखना। सक्क सजोइऊण (श्रु ३२)।

सजोअ पु [सयोग] सबन्ध, मेल-मिलाप, मिश्रण (षड्, महा)।

सजोअण न [सयोजन] १ जोडना, मिलाना (ठा २, १—पत्र २६)। २ वि जोडनेवाला। ३ कषाय-विशेष, अनन्तानुवन्धि नामक क्रोधादि-चतुष्क (विसे १२२६, कम्म ५, ११ टी)। 'विकरणिआ वी [अधिकरणिक्की] पुज्ज' प्रादि को उसको मूठ प्रादि से जोडने की क्रिया (ठा २, १—पत्र ३६)।

सजोअणा वी [सयोजना] १ मिलान, मिश्रण (पिंड ६३६)। २ भिक्षा का एक दोष; स्वाद के लिए भिक्षा-प्राप्त चीजों को आपस में मिलाना (पिंड १)।

सजोड्य वि [सयोजित] मिलाना हुआ, जोडा हुआ (भग, महा)।

वोक्क सक [व्या + ह, उद् + नद्] पुका-
रना, आह्वान करना। वोक्कइ (पड्, प्राक्क
७४)।

वोक्क सक [उद् + नद्] अभिनय करना।
वोक्कइ (प्राक्क ७४)।

वोक्कत वि [व्युत्क्रान्त] ? विपरीत रूप से
स्थित (हे १, ११६)। २ अतिक्रान्त, 'पञ्ज-
वनयवोक्कत त वल्लु दव्वट्टिअस्स वयरिण्ज' (सम्म ८)। देखो वुक्कत।

वोक्कस सक [व्यप + कृष्] ह्रास प्राप्त
करना, कमी करना। कवक्क वोक्कसिज्जमाण
(भग ५, ६—पत्र २२८)।

वोक्कस देखो वोक्कस (सूअ १, ६, २)।

वोक्कस देखो वुक्कस = व्युत् + कृष्। वोक्क-
साहि (भाचा २, ३, १, १४)।

वोक्का स्त्री [दे] वाद्य-विशेष, 'डक्कावोक्काए
रवो विरयभिओ रायपणणए' (सुपा २४२)।
देखो वुक्का।

वोक्का स्त्री [व्याहृति] पुकार (उप ७६८
टी)।

वोक्कार देखो वोक्कार (सुर १, २४६)।

वोक्ख देखो वोक्क = उद् + नद्। वोक्खइ
(धात्वा १५४)।

वोक्खदय पु [अवसरुन्द] आक्रमण (महा)।

'वोक्खारिय वि [दे] विभूषित, 'पवरदेवग-
वत्थवोक्खारियकणायखम' (स २३६)।

वोगड वि [व्याकृत] ? कहा हुआ, प्रति-
पादित (सूअ २, ७, ३८, भग, कस)। २
परिस्फुट (आचानि २६२)।

वोगडा स्त्री [व्याकृता] प्रकट अर्थ वाली
भाषा (परएण ११—पत्र ३७४)।

वोगसिअ वि [व्युत्कर्षित] निष्कासित,
बाहर निकाला हुआ (तडु २)।

वोच्च } सक [वद्] बोलना, कहना। वोच्चइ,
वोच्च } वोच्चइ (धात्वा १५४)।

वोच्चत्थ वि [व्यदयस्त] विपरीत, उल्टा,
'हियनिस्सेस (१यस)वुद्धिवोच्चत्थ' (उत्त ८,
५, सुख ८, ५, विसे ८५३)।

वोच्चत्थ न [दे] विपरीत रत्त (दे ७, ५८)।
वोच्च्छं देखो वय = वच्।

वोच्चिद सक [व्युत्, व्यव + छिद्] ?
भागना, तोड़ना, खरिदत करना। २ विनाश
करना। ३ परित्याग करना। वोच्चिदइ
(उत्त २६, २)। भवि वोच्चिर्दिर्हित (पि
५३२)। कर्म वुच्चिज्ज, वोच्चिज्जइ, वोच्चि-
ज्जए (कम्म २, ७, पि ५४६, काल)। भवि
वोच्चिर्दिर्हित (पि ५४६)। वक्क वोच्चिदत्त,
वोच्चिदमाण (से १५, ६२, ठा ६—पत्र
३५६)। कवक्क वोच्चिज्जत्त, वोच्चिज्जमाण
(से ८, ५, ठा ३, १—पत्र ११६)।

वोच्चिण्ण देखो वोच्चिण्ण (विपा १, २—
पत्र २८)।

वोच्चित्ति स्त्री [व्यवच्छित्ति] विनाश,
'ससारवोच्चित्ति' (विसे १-३३)। °णय पुं
[°नय] पर्याय-नय (एदि)।

वोच्चिञ्च देखो वुच्चिञ्च (भग, कप्प, सुर
४, ६६)।

वोच्च्छेअ } पु [व्युच्छेद, व्यवच्छेद]
वोच्च्छेद } ? उच्छेद, विनाश, 'ससारवो-
च्छेयकरे' (एयाया १, १—पत्र ६०, धर्मस
२२८)। २ अभाव, व्यावृत्ति (कम्म ६,
२३)। ३ प्रतिबन्ध, रुकावट, निरोध (उवा,
पचा १, १०)। ४ विभाग (गउड ७४०)।

वोच्च्छेयण न [व्युच्छेदन] ? विनाश
(चेइय ५२४, पिड ६६६)। २ परित्याग
(ठा ६ टी—पत्र ३६०)।

वोच्च्छे देखो वुच्च्छे। वोच्च्छे (हे ४, १६८ टी)।
वोच्च्छे सक [वीजय] हवा करना। वोच्च्छे
(हे ४, ५, पड्)। वक्क वोच्च्छेत्त (कुमा)।

वोच्च्छर वि [त्रसित्] डरनेवाला (कुमा)।

वोच्च्छे देखो वह = वह्। भवि 'तेण कालेण
तेण समएण गगासिपूओ महानदीओ र्हपह-
वित्थराओ अक्खत्तोयप्पमाणेत जए वोच्च्छ-
हित' (भग ७, ६—पत्र ३०७)। क
'नासानीसासवायवोच्च्छे अयुय' (एयाया
१, १, १—पत्र २५, राय १०२, प्राप)।

वोच्च्छे } पु [दे] वोक्क, भार 'असि-
वोच्च्छेमल्ल } वोच्च्छे फलयवोच्च्छेमल्ल च'
(दे ७, ८०)।

वोच्च्छर वि [दे] ? अतीव। २ भीत, डरत
(दे ७, ६६)।

वोट्टि वि [दे] सक्त, लीन (पड्)।

वोड वि [दे] ? दुष्ट। छिन्न-कण, जिक्का
कान कट गया हो वह (गा ५४६)। देखो
वोड।

वोडही स्त्री [दे] ? तच्छणी, युवति। २
कुमारी, 'सिक्खनु वोडहीओ' (गा ३६२)।
देखो वोड्रह।

वोडु वि [दे] मूर्ख, वेवकूफ (उव)।

वोड वि [ऊड] वहन किया हुआ (धात्वा
१५४)।

वोड वि [दे] देखो वोड (गा ५५० प्र)।

वोडव्व देखो वह = वह्।

वोडु वि [वोट्ट] वहन-कर्ता (महा)।

वोडु देखो वह = वह्।

वोडुण अ [उड्ढ्वा] वहन कर (पि ५८६)।

वोत्तव्व देखो वय = वच्।

वोत्तुआण अ [उक्त्वा] कह कर (पड्—
१५३)।

वोत्तु } देखो वय = वच्।
वोत्तूण }

वोदाण न [व्यवदान] ? कर्म निर्वाह, कर्मों
का विनाश (ठा ३, ३—पत्र १५६, उत्त
२६, १)। २ शुद्धि, विशेष रूप से कर्म
विशोधन (पचा १५, ४, उत्त २६, १, भा)।
३ तप, तपधर्या (सूअ १, १४, १७)। ४
वनस्पति-विशेष (परएण १—पत्र ३४)।

वोड्रह वि [दे] तच्छण, युवा (दे ७, ८०),
'वोड्रहहम्मि पडिआ' (हे २, ८०)। स्त्री,
°ही, 'सिक्खनुवोड्रहीओ' (हे २, ८०)।

वोओसण वि [दे] वराक, दीन, गरीब (दे
७, ८२)।

वोम न [व्योमन्] आकाश, गगन (पाम-
विसे ६५६)। °विन्दु पु [°विन्दु] एक
राजा का नाम (पउम ७, ५३)।

वोमज्ज पु [दे] अनुचित वेप (दे ७, ८०)।
वोमज्जिअ न [दे] अनुचित वेप का ग्रहण
(दे ७, ८० टी)।

वोमिल पु [व्योमिल] एक जैन पुनि (कप्प)।

वोमिला स्त्री [व्योमिला] एक जैन पुनि-
शाखा (कप्प)।

सण्डिअ वि [सनटिट] व्याकुल किया हुआ, विडम्बित (वज्जा ७०)।
 सण्ड्वि वि [सनद्ध] सनाह-युक्त, कवचित (विपा १, २—पत्र २३, गडड)।
 सणय देखो सनय (राज)।
 सणय्या वी [सन्नापना] सन्नप्ति, विज्ञापन (उवा)।
 सणा वी [सन्ना] १ आहार आदि का अभिलाष (सम ६, भग, परण १, ३—पत्र ५५, प्रासू १७६)। २ मति, बुद्धि (भग)। ३ सकेत, इशारा (से ११, १३४ टी)। ४ आख्या, नाम। ५ सूर्य की पत्नी। ६ गायत्री (हे २, ४२)। ७ विष्ठा, पुरीप (उप १४२ टी)। ८ सम्यग् दर्शन (भग)। ९ सम्यग् ज्ञान। (राय १३३)। 'इअ वि [°कृत] टट्टी फिरा हुआ, फरागत गया हुआ (दस १ १ टी)। 'भूमि' वी [°भूमि] पुरीपोत्थर्जन की जगह (उप १४२ टी, दस १, १ टी)।
 सणामिय वि [सनामित] अवनत किया हुआ (पचा १६, ३६)।
 सणाय वि [सन्नात] १ ज्ञात, नात का आदमी (पच १०, ३६)। २ स्वजन, सगा (उप ६५३)। देखो सनाय।
 सणाम पु [सन्नास] ससार-व्याग, चतुर्थ आश्रम (नाट—चैत ६०)।
 सणामि वि [सन्नासिन्] ससार-व्यागो, चतुर्थ आश्रमी यति, ब्रती (नाट—चैत ८८)।
 सणाह मत्र [स + नाहय्] लडाई के लिए तयार करना, युद्ध-सज्ज करना। सणाहनि (धोप ८०)।
 सणाह पु [सनाह] १ युद्ध की तैयारी (से ११, १२१)। २ कवच, बखतर (नाट—पेटो ६२)। 'पट्ट' पु [°पट्ट] शरीर पर पहने ता यत्र विशेष। (उह ३)।
 सणाहिय वि [सनाहिक] युद्ध की तैयारी में मन्थन करनेवाला सणाहियाए नेरीए न्द 'तोन्ना' (खाया १, १६—पत्र २१७)।
 सणिय वि [सन्नि] १ सनागला, सना-युक्त। २ मनवाना प्राणो (नम २, भग, धोप)। ३ श्वरक, जैन गृहण्य (धोप ८)।

४ सम्यग् दर्शनवाला, सम्यक्त्वो, जैन (भग)।
 ५ न. गोत्र-विशेष, जो वासिष्ठ गोत्र की शाखा है। ६ पुत्री उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र ३६०)।
 सणिक्रिखत्त देखो सनिक्रिखत्त (राज)।
 सणियास देखो सणियास (खाया १, १—पत्र ३२)।
 सणियास देखो सनियास = सनिकर्ष (राज)।
 सणिचय देखो सनिचय (राज)।
 सणिचिय देखो सनिचिय (आचा २, १, २, ४)।
 सणिज्झ देखो सनिज्झ (गडड)।
 सणियाय देखो सनियाय (राज)।
 सणियाइ देखो सणिहाइ (नाट—मालती २६)।
 सणियाण देखो सनिहाण (नाट—उत्तर ४४)।
 सणिपडिअ वि [सनिपत्तित] गिरा हुआ (विपा १, ६—पत्र ६८)।
 सणिभ देखो सनिभ (राज)।
 सणिय वि [सञ्चित] जिसको इशारा किया गया हो वह (सुपा ८८)।
 सणियास पु [सनिकाश] समान, सदृश (पउम २०, १८८)। देखो सनियास।
 सणिरुद्ध वि [सनिरुद्ध] रका हुआ, नियन्त्रित (आचा २, १, ४, ४)।
 सणिरोह पु [सनिरोध] अटकाव, रकावट (से ५, ६४)।
 सणियय अक [सनि + पत्] पडना, गिरना। वक्क सणिवयमाण (आचा २, १, ३, १०)।
 सणियाय पु [सनिपात] सम्बन्ध (पचा ७, १८)।
 सणिविट्ठ देखो सनिविट्ठ (खाया १, १ टी—पत्र २)।
 सणिवेस देखो सनिवेस (आचा १, ८, ६, ३, भग, गडड, नाट—मालती ५६)।
 सणिसिज्जा } देखो सनिसिज्जा (राज)।
 सणिसेज्जा }
 सणिइ देखो सनिह (गा २५८, नाट—मृचङ्ग ६१)।

सणिहाइ वि [सनिवायिन्] समीप-स्थायी (माल ५२)।
 सणिहाण देखो सनिहाण (राज)।
 सणिहि देखो सनिहि (आचा २, १, २, ४)।
 सणिहिअ वि [सनिहित] सहायता के लिए समीप-स्थित, निकट-वर्ती (महा)। देखो सनिहिअ।
 सणेज्झ देखो सनेज्झ (गडड)।
 सत देखो स = सत (उवा, कप्प, महा)।
 सत वि [शान्त] १ शम-युक्त, क्रोध-रहित (कप्प, आचा १, ८, ५, ४)। २ पु रस-विशेष, 'विणयता चैव गुणा सततरसा किया उ भावता' (सिरि ८८२)।
 सत वि [श्रान्त] थका हुआ (खाया १, ४, उवा १०१, ११२, विपा १, १, कप्प, दे ८, ३६)।
 सतइ वी [सतति] १ सतान, अपत्य, लडकावाला, 'डुट्टसीला खु इत्थिया विणासेइ सतइ' (स ५०५, सुपा १०४)। २ अविच्छिन्न धारा, प्रवाह (उत्त ३६, ६, उप पु १८१)।
 सतच्छ्रण न [सतक्ष्ण] छिलना (सुअ १, ५, १, १४)।
 सतच्छिअ वि [सतक्षित] छिला हुआ (परह १, १—पत्र १८)।
 सतट्ट वि [सत्रस्त] डरा हुआ, भय-भीत (सुर ६, २०५)।
 सतति देखो सतइ (स ६८४)।
 सतत्त वि [सतत] १ निरन्तर, अविच्छिन्न। २ विस्तीर्ण।
 'अच्छिनिमीलियमित्त नत्थि सुहं दुम्भमेव सतत्त।
 नरण नेरइयाए अहोनिस्सि पच्चमाणएण।'
 (सुर १४, ४६)।
 सतत्त वि [सतत्त] सताप युक्त (सुर १४, ५६, गा १३६, सुपा १६, महा)।
 सतत्थ देखो सतट्ट (उव, आ १८)।
 सतप्प अक [स + तप्] १ तपना, गरम होना। २ पीडित होना। सतप्पइ (हे ४, १४०, स २०)। भवि. संतप्पिसइ (स

श

शिखाल (मा) पुं [श्याल] बहू का भाई, | श्रिट (मा) देखो चिट्ट = स्था । श्रिटवि
साला (प्राक् १०२, मुच्छ २०४) । | (घात्वा १५४, प्राक् १०३) ।

॥ इम सिरिपाइअसइमहण्णवमि शाराराइसइसकलणो
छत्तीसइमो तरंगो समत्तो ॥

स

स पु [स] व्यञ्जन वर्ण-विशेष, इसका उच्चारण-स्थान दाँत होने से यह कन्त्य कहा जाता है (प्राप्र) । अण, गण पु [गण] पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, जिसमें प्रथम के दो ह्रस्व और तीसरा गुरु अक्षर होता है (पिंग) । गारं पुं [कार] 'स' अक्षर (वसति १०, २) ।

स देखो स = सम् (षड्, पिंग) ।

स पु [श्च] श्चान, कुत्ता (हे १, ५२, ३, ५६, षड्) । पाग पु [पाक] चरडाल (उव) । मुहि पुष्ठी [मुखि] कुत्ते की तरह आचरण, कुत्ते की तरह भरण—भूकना (राया १, ६—पत्र १६०) । वच पु [पच] चारडाल (दे १, ६४) । वाग, वाय देखो पाग (वै ५६; पात्र) ।

स अ [स्वर] सुरालय, स्वर्ग (विसे १८८३) ।

स वि [सत्] श्रेष्ठ, उत्तम (उवा, कुमा, कुप्र १४१) । २ विद्यमान, जो य उप्पजए अ-सं (सुप्र १, १, १, १६) । उरिस पुं [पुरुष] श्रेष्ठ पुरुष, सजन (गउड) । क्य वि [कृत] समानित (परह १, ४—पत्र ६८), देखो क्खिअ । क्ह वि [कथ] सत्य वक्ता (स ३२) । क्खिअ न [कृत] सत्कार, समान (उत् १५, ५), देखो क्य । गगइ बी [गति] उत्तम गति—१ स्वर्ग ।

२ मुक्ति, मोक्ष (भवि, राज) । ज्जण पु [ज्जन] भला भादमी, सत्पुरुष (उव, हे १, ११, प्रासू ७) । त्तम वि [त्तम] अतिशय साधु, सज्जनो में अतिश्रेष्ठ (सुपा ६५५, आ १४, सार्ध ३) । त्याम न [स्थामन्] प्रशस्त बल (गउड) । धम्मिअ वि [धार्मिक] श्रेष्ठ धार्मिक (आ १२) । ज्ञाण न [ज्ज्ञान] उत्तम ज्ञान (आ २७) । प्पम वि [प्रम] सुन्दर प्रभा वाला (राय) । प्पुरिस पु [पुरुष] श्रेष्ठ सज्जन, भला भादमी (अभि २०१, प्रासू १२) । २ किपुरुष-निकाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ श्रोत्रुष्य (कुप्र ४८) । फल वि [फल] श्रेष्ठ फलवाला (अच्छु ३१) । वभाव पु [भाव] श्रेष्ठ सम्भव, उत्पत्ति (उप ७२६) । २ सत्त्व, अस्तित्व (सम् ३७, ३८, ३९) । ३ सुन्दर भाव, चित्त का अच्छा अभिप्राय, सम्भावो पुण उप्पजुणएसस कोडि विसेसेइ (प्रासू ६, १७२, उव, हे २, १६७) । ४ भावार्थ, तात्पर्य (सुर ३, १०२) । ५ विद्यमान पदार्थ (अणु) । वभावदायणा ली [भावदर्शन] आलोचना, प्रायश्चित्त के लिए निज दोष का गुर्वादि के समझ प्रकटीकरण (धोष ७६१) । वभाविअ वि [भावित] सद्भाव-युक्त (स २०१, ६६८) । वभूअ वि

[भूत] श्रेष्ठ सत्य, वास्तविक, सच्चा, 'सम्-एहि भावेहि' (उवा) । २ विद्यमान (पचा ४, २४) । आचार पु [आचार] प्रशस्त आचरण (रयण १५) । रूव वि [रूप] प्रशस्त रूपवाला (पत्रम ८, ६) । लम पु [लग] प्रशस्त सचरण; इन्द्रिय समय (सुप्र २, २, ५७) । वाय पु [वाद] प्रशस्त वाद (सुप्र २, ७, ५) । वाया ली [वाच्] प्रशस्त वाणी (सुप्र २, ७, ५) ।

स पु [स्व] श्रेष्ठ आत्मा, खुद (उवा, कुमा, सुर २, २०६) । २ ज्ञाति, नात (हे २, ११४, षड्) । ३ वि. आत्मीय, स्वीय, निजो (उवा, श्रोधमा ६, कुमा, सुर ४, ६०) । ४ न. वल, द्रव्य (पचा ८, ६; आचा २, १, १, ११) । ५ कर्म (आचा २, १६, ६) । कड्ढिभ, गड्ढिभ वि [कृतभिद्] निज के लिए हुए कर्मों का विनाशक (वि १६६, आचा १, ३, ४, १, ४) । जण पु [जन] श्रेष्ठ सगा । २ आरमीय लोग (स्वन् ६७, षड्) । तत वि [तन्त्र] श्रेष्ठ स्वाधीन, स्वयं (विसे २११२, दे ३, ४३, अच्छु १) । २ न स्वकीय सिद्धान्त (निचू ११) । स्थ वि [स्थ] श्रेष्ठ तदुत्त, स्वभाव-स्थित । २ मुख से अवस्थित (प्राप्र, पत्रम २६, ३१, स्वन् १०६, सुर १०, १०४, सुपा २७६, षड्) । पकरा पु [पक्ष] श्रेष्ठ सामाजिक,

१५, सुपा ४३६) । २ आनन्दित, खुशी (कम्प) ।

सतोसिअ पु [सतोपिअ] सतोप, तुमि (उवा १६) ।

सतोसिअ वि [सतोपित] सतुष्ट किया हुआ (महा, सण) ।

सथ वि [सस्थ] सस्थित (विसे ११०१) ।

सथड वि [सस्तुत] १ आच्छादित, सथडिय परस्पर के सथले से आच्छादित (भग ठा ४, ४) । २ घन, निविड (आचा २, १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२, शोध ७४७) । ४ समर्थ । ५ तुप्त, जिसने पर्याप्त भोजन किया हो वह (कस, आचा २, ८, २, ३, दस ७, ३३) । ६ एकत्रित (आचा २, १, ६, १) ।

सथण अक [स + स्तन्] आरूढ़ करना । संयण्णी (सुम १, २, ३, ७) ।

सथर अक [स + स्तु] १ विद्यौना करना, विद्यौना । २ निस्तार पाना, पार जाना । ३ निर्वाह करना । ४ अक. समर्थ होना । ५ तुप्त होना । ६ होना, विद्यमान होना । सथरद (भग २, १—पत्र १२७, उवा, कस), 'ए सपुच्छे एो सथरे तण' (सुम १, २, २, १३, आचा), सथरिज्ज, सथरे, सथरेजा (कम्प, दस ५, २, २, आचा) । वक्क सथरं, सथरत, सथरमाण (उवर १४२, शोध १२२, १२१, आचा २, ३, १, ८) । सठ सथरित्ता (भग, आचा) ।

सथर पु [सस्तर] निर्वाह (पिउ ३७५, ४००) ।

सथर देवो सथार (सुर २, २४७) ।

सथरण १ [सस्तरण] १ निर्वाह (इह १) । २ मिद्यौना करना (राज) ।

सथव अक [स + स्तु] १ स्तुति करना, श्लाघा करना । २ परिचय करना । सथवेजा (सुम १, १०, ११) । ३ सथवियञ्ज (सुपा २) ।

सथव पु [सस्तव] १ स्तुति, श्लाघा, सथवो युद' (नि २, वय ३, पिउ ८८६) । २ परिचय, चर्चा (उवा, पिउ ३१०, ८८६, ८८६, आनक ८८) । ३ वि स्तुति-कर्ता (पाना ८, १, टी—पत्र २००, राज) ।

सथवण न [सस्तवण] ऊपर देखो (सबोध ५६, उप ७६८ टी) ।

सथवय वि [सस्तावक] स्तुति-कर्ता (णाय १, १६—पत्र २१३) ।

सथविअ देखो सठविअ (पजम ८३, १०) ।

सथार पु [सस्तार] १ दर्भ—कुश आदि सथारग को शय्या, विद्यौना (णाय १, १—सथारय पत्र ३०, उवा, उव, भग) । २ अणवरक, कमरा (आचा २, २, ३, १) । ३ उपाश्रय, साधु का वास-स्थान (वव ४) । ४ सस्तार-कर्ता (पत्र ७१) ।

सथाव देखो सठाव । वक्क. सथावत (पजम १०३, २४) ।

सथावण न [सस्थापन] सान्त्वना, समाश्वासन (पजम ११, २०, ४६, ८, ६५, ४७) । देखो सठावण ।

सथावणा छो [सस्थापना] सस्थापन, रखना (सा २४) । देखो सठावणा ।

सथिद (शौ) देखो सठिअ (नाट—मृच्छ ३०१) ।

सथुअ वि [सस्तुत] १ सबद्ध, सगत (सुम १, १२, २) । २ परिचित (आचा १, २, १, १) । ३ जिसकी स्तुति की गई हो वह, श्लाघित (उत्त १, ४६, भवि) ।

सथुइ छो [सस्तुति] स्तुति, श्लाघा, प्रशंसा (वेदय ४६६, सुपा ६५०) ।

सथुण अक [स + स्तु] स्तुति करना, श्लाघा करना । सथुणइ (उव, यति ६) । वक्क सथुणमाण (पजम ८३, १०) । कवक्क सथुणिज्जत, सथुव्वत (सुपा १६०, आक ७) । सठ सथुणित्ता (पि ४६४) ।

सथुल वि [सस्थुल] रमणीय, रम्य, सुन्दर (चाह १६) ।

सथुव्वत देखो सथुण ।

सद अक [स्यन्द] १ करना, टपकना । सदति (सुम १, १२, ७) ।

सद पु [स्यन्द] १ करना, प्रसन्न (से ७, ५६) । २ रय, 'रवि-सदु(१) दुव्व भमतो (घमवि १४४) ।

सद वि [सान्द्र] घन, निविड (अचु ३७, विक्र २३) ।

सदस पुं [सदश] दक्षिण हस्त, 'द्विवाविश्रो निवेण कोववसा तहवि तस्स सदसो' (कुप्र २३२) ।

सदंसण न [सदंशान] दर्शन, देखना, साक्षात्कार (उप ३५७ टी) ।

सदट्ट वि [सदट्ट] जो काटा गया हो वह, जिसको दश लगा हो वह (हे २, ३४, कुमा ३, ८, षड्) ।

सदट्ट वि [द] १ सलग्न, सयुक्त, सदट्टय साबद्ध (से ८, १८, गउड, २३६) । २ न सधट्ट सधर्व (दे ८, १८) ।

सदड्ड वि [सदग्ध] प्रति जला हुआ (सुर ६, २०५, सुपा ५६६) ।

सदण पुं [स्यन्दन] १ रथ (पात्र, महा) । २ भारतवर्ष में अतीत उत्सर्पणी काल में उत्पन्न तेइसवा जिनदेव (पव ७) । ३ न. क्षरण, प्रसन्न । ४ वहन, वहना । ५ जल, पानी, 'जत्थ ए नई निच्चोयणा निच्चसदणा' (कम्प) ।

सदठम पु [सदभ] रचना, ग्रंथन (उवर २०३, सण) ।

सदमाणिया छो [स्यन्दमानिका, 'नी] सदमाणी एक प्रकार का वाहन, एक तरह की पालकी (शौप, णाय १, ५—पत्र १००, १, १ टी—पत्र ४३, शौप) ।

सदाण अक [क] अवलम्बन करना, सहारा लेना । सदाणइ (हे ४, ६७) । वक्क. सदाणत (कुमा) । कवक्क सदाणिज्जत (नाट—मालती ११६) ।

सदाणिअ वि [सदानित] बद्ध, नियन्त्रित (पात्र, से १, ६०, १३, ७१, सुपा ३, कुप्र ६६, नाट—मालती १६६) ।

सदामिय वि [सदा।मत] ऊपर देखो (स ३१६, सम्मत १६०) ।

सदाव देखो सताव = सताप (गा ८१७, ६६४, पि २७५, एज्ज २७, अग्नि ६१, माल १७६) ।

सदाव पु [सद्राव] समूह, समुदाय (विसे २८) ।

सद्विट्ठ वि [सद्विट्ठ] १ जिमका अथवा जिसको संदेशा दिया गया हो वह, उपद्विट्ठ, कथित (पात्र, उप ७२८ टी, शोधभा ३१,

रय वि [रत] कामो (से १, २७) ।
 रहस वि [रभस] वेग-युक्त, उतावला
 (गा ३५४, सुपा ६३२, कण्पु) । राग वि
 [राग] राग-सहित (ठा २, १—पत्र ५८) ।
 रागसजत, रागसजय वि [रागसयत]
 वह साधु जिसका राग क्षीण न हुआ हो
 (परण १७—पत्र ४९४, उवा) । रूव
 वि [रूप] समान रूपवाला (पत्रम ८,
 ६) । लूण वि [लवण] लावण-युक्त
 (सुपा २६३) । लोण वि [लोके] समान,
 सदृश (सहि २१ टी) । लोण देखो लूण
 (गा ३१६, हे ४, ४४४, कुमा) । लो
 लोणी (हे ४, ४२०) । वक्ख देखो पक्ख
 (गडड, भवि) । वण वि [व्रण] षाववाला,
 ऋण युक्त (सुपा २८) । वय वि
 [वयस] समान उम्रवाला (दे ८, २२) ।
 वय वि [व्रत] ब्रती (सुपा ४५१) । वाय
 वि [पाद] सवा (स ४४१) । वाय
 वि [वाद] वाद-सहित (सूत्र २, ७, ५) ।
 वास वि [वास] समान वासवाला, एक
 देश का रहनेवाला (प्रासू ७६) । विज्ज वि
 [विद्य] विद्यावान्, विद्वान् (उप पु २१५) ।
 व्वण देखो वण (गडड, आ १२) ।
 व्ववेक्ख वि [व्यपेक्ष] दूसरे की परवाह
 रखनेवाला, सापेक्ष (धर्मसं ११६७) । व्वाव
 वि [व्याप] व्याप्त-युक्त, व्यापक (भग
 १, ६—पत्र ७७) । व्विवर वि [विवर]
 विवरण-युक्त, सविस्तर (सुपा ३६४) ।
 सक वि [शक] शका-युक्त (दे २, १०६,
 सुर १६, ५५, कुप्र ४४५, गडड) । सकिअ
 वि [शक्ति] बही (सुर ८, ४०) । सत्ता
 लो [सत्त्वा] सगर्भा, गर्भिणी लो (उत्त
 २१, ३) । सिरिय, सिरिय वि [श्रीक]
 श्री-युक्त, शोभा-युक्त (पि ६८, गाय्या १, १,
 राय) । सिंह वि [सिंह] स्थूहावाला
 (कुमा) । सिंह वि [शिख] शिखा-युक्त
 (राज) । सुग वि [शूक] द्यालु (उव) ।
 सेस वि [शेष] शेष-युक्त, बाकी रहा
 हुआ (दे ८, ५६, गडड) । शेषनाग-सहित
 (गडड १५) । सोग, सोगिळ वि [शोक]
 दिलगौर, शोक-युक्त (पत्रम ६३, ४, सुर ६,
 १२४) । सिरिअ, सिरिअ देखो

सिरिय (पि ६८, अग्नि १५६; भग, सम
 १३७, गाय्या १, ६—पत्र १५७) ।
 सअ सक [स्वद] श्रुति करना । र चखना,
 स्वाद लेना । समद (प्राकृ ७५, वाला
 १५४) ।
 सअ न [सदस्] सभा (षड्) ।
 सअअ न [दे] शिला, पत्थर का तल्ला ।
 २ वि घूर्णित (दे ८, ४६) ।
 सअअखगन्त पु [दे] कितव, जुमारी (दे ८,
 २१) ।
 सअअजिअ } पुंजी [दे] प्रातिवेशिक,
 सअअजिअ } पढोसी (गा ३३५) । लो आ
 (गा ३६, ३६ अ), 'सअअजिअ सठवतीए'
 (गा ३६, पिड ३४२) । देखो सइजिअ ।
 सअअडिआ देखो सगडिआ (पि २०७) ।
 सअअड पु [दे] लम्बा केश (दे ८, ११) ।
 सअअड पु [शकट] शकट-विशेष (प्राप्र,
 संक्षि ७, हे १, १६६) । २ पुन. यान-विशेष,
 गाडी (हे १, १७७, १८०) । रिरि पु
 [रि] नरसिंह, श्रोत्रकण (कुमा) । देखो
 सगड ।
 सअर देखो स-अर = स-कर, स-गर ।
 सअर देखो सगर (से २, २६) ।
 सआ अ [सदा] हमेशा, निरन्तर (प्राप्र,
 हे १, ७२, कुमा, प्रासू ४६) । चार पु
 [चार] निरन्तर गति (रयण १५) ।
 सआ लो [सज्ज] माला (षड्) ।
 सइ देखो सआ = सदा (पाम्, हे १, ७२,
 कुमा) ।
 सइ अ [सकत्] एक बार, एक दफा (हे
 १, १२८, सम ३५, सुर ८, २४४) ।
 सइ लो [स्मृति] स्मरण, चिन्तन, याद (आ
 १६) । काल पु [काल] शिक्षा मिलाने का
 समय (वस ५, २, ६) ।
 सइ देखो स = स्व, 'सइकारियणिणपडिआए'
 (सुपा ५१०, भवि) ।
 सइ देखो सय = शत, 'अस्सोयव्व सोच्चवि
 षुट्टए ज न सइखड' (सुर १४, २) । कोडि
 लो [कोटि] एक सौ करोड, एक अन्न—
 अरव (षड्) ।
 सइ देखो सइ = स्वयम् (काल, हे ४, ३६५,
 ४३०) ।

सइ देखो सई = सती (सुपा ३०१) ।
 सइअ वि [शक्ति] सौ का परिवारवाला
 (गाय्या १, १—पत्र ३७) । देखो सइग ।
 सइअ वि [शयित] सुप्त, सोया हुआ (दि
 ७, २८, गा २५४, पत्रम १०१, ६०) ।
 सइअण्ण देखो स = स्व, ताव य प्राणो
 परिव्यायथो जक्खदेज्जाथो सइअण्णए वादि
 पुरिसे वेत्तूण' (महा) ।
 सइ देखो सइ = सकृत् (आवा) ।
 सइ देखो सय = स्वयम् (ठा २, ३—पत्र
 ६३, हे ४, ३३६, ४०२, भवि) ।
 सइग वि [शक्ति] सौ (व्याय प्रादि) की
 कीमत का (दखनि ३, १३) ।
 सइज्जम् } पुंजी [दे] प्रातिवेशिक, पढोसी
 सइजिअ } (दे ८, १०) । लो आ (सुपा
 २७८, पिड ३४२ टी, वजा ६४) ।
 सइजिअ न [दे] प्रातिवेश्य, पढोसिपन
 (दे ८, १० टी) ।
 सइण्ण न [सैन्य] सेना, लश्कर (षड्) ।
 सइत्तए देखो सय = शी ।
 सइदसण वि [दे स्मृतिदर्शन] मनोच्छेद,
 चित्त में अवलोकित, विचार में प्रतिभासित
 (दे ८, १६, पाम्) ।
 सइदिट्ठ वि [दे स्मृतिदृष्ट] ऊपर देखो (दि
 ८, १६) ।
 सइन्न देखो सइण्ण (हे १, १५१, कुमा) ।
 सइम वि [शततम] सौवा, १०० वाँ (गाय्या
 १, १६—पत्र २१४) ।
 सइर न [स्वैर] स्वच्छा, स्वच्छत्वा (हे
 १, १५१, प्राप्र, गाय्या १, १८—पत्र
 २३६) । २ वि. मन्द, अलस (पाम्) । ३
 स्वैरी, स्वच्छन्दी (पाम्, प्राप्र) ।
 सइरवसह पुं [दे स्वैरवृषभ] स्वच्छन्दी
 साँड, धर्म के लिए जोड़ा जाता बैल (दे २,
 २५, ८, २१) ।
 सइरि वि [स्वैरि] स्वच्छन्दी, स्वच्छानाँट
 (गच्छ १, ३८) ।
 सइरिणी लो [स्वैरिणी] व्यभिचारिणी लो,
 कुलटा (पत्रम ५, १०५) ।
 सइल देखो सेल (हे ४, ३२६) ।
 सइलभ वि [दे स्मृतिलभ] देखो सइ-
 दसण (दे ८, १६, पाम्) ।

सधीर सक [स + धीरय्] आधासन देना,
धीरज देना। वक्र. सधीरत (सुपा ४७६)।

सधीरविय वि [सधीरित] जिसको आधासन
दिया गया हो वह; आधासित (सुर ४,
१११)।

सधुक्क ग्रक [प्र + दीप्. स + धुक्] ?
जलना, सुलगना। २ सक जलाना। ३
उत्तेजित करना। सधुक्कइ (हे ४, १५२,
कुमा)। कर्म सधुक्कइइ (वजा १३०)।

सधुक्कण न [सधुक्कण] ? सुलगना, जलना।
२ प्रज्वालन सुलगाना (भवि)। ३ वि.
सुलगानेवाला (स २४१)।

सधुक्किअ वि [सधुक्कित] ? जलाया हुआ,
सुलगया हुआ (सुपा ५०१)। २ जला हुआ,
प्रदीप्त, सुलगा हुआ (पात्र, महा, स २७)।
३ उत्तेजित, 'अविवेयपवणसधुक्कियो पज्ज-
लिओ मे मणम्मि कोवाणलो' (स २४१)।

सधुक्कइइ (शो) ऊपर देखो (नाट—मूच्छ
२३३, १)।

सधुम दया सदुम। सधुमइ (पड्)।

सधे देखो सय = स + धा। सधेइ, सधेति,
सधेजा (ग्राचा १, १, १, ५, पि ५००,
सूत्र १, ६, १, ५)। वक्र सधेत, सधेमाण
(पउम ६८, ३१, पचा १६, २७, आचा,
पि ५००)।

सन देखो सण (ग्राचा १, ५, ६, ४)।

सनक्खर न [सज्ञाक्षर] अकार आदि अक्षरों
की आकृति (एदि १८७)।

सनज्जक देखो सणज्जक। सनज्जकइ (भवि)।
नक सनज्जकण (महा)। हेऊ. सनज्जकउ
(स ३७६)।

सनण न [सज्ञान] ज्ञान करना, सना करना
(उप २६०)।

सनत द्यो सनय (पएह १, ४—पत्र ७८)।
मनट्ट दया सणट्ट (श्रौप, विपा १, २ वे—
पत्र २३)।

सनय पि [मनत] नमा हुआ, प्रवनत (श्रौप,
वजा १५०)।

सनय न [स + ज्ञापय्] संभाषण से
नाट्ट करना। सनयेद (राय १४०)।

सनद दया सणज्जक। सनहइ (भवि), सनहइ
(धना २०)।

सनहण न [सनहन] सनाह (पउम १०,
६४)।

सनहिय देखो सणद्ध (सुपा २२)।

सना देखो सणा (ठा १—पत्र १६, परह
१, ३—पत्र ५५, पात्र, सुर ३, ६७, पिड
२४५, उप ७५१, द ३)।

सनाय वि [सज्ञात] पिछाना हुआ, पहिचाना
हुआ, 'सनाया परियणेण' (महा)। देखो
सणाय (पव १५३)।

सनाह देखो सणाह = स + नाह्य्। सनाहेइ
(श्रौप, तदु ११)। सक. सनाहित्ता (तदु
११)।

सनाह देखो सणाह = सनाह (महा)।

सनाहिय वि [सनाहित] तयार किया हुआ,
सजाया हुआ (श्रौप)।

सनाहिय देखो सणाहिय (शाया १, १६—
पत्र २१७)।

सनि देखो सणि (सम २, ठा २, २—पत्र
५६, जी ४३, कम्म १, ६)।

सनिक्कास देखो सनिगास (ठा ६—पत्र
४५६, कप्प)।

सनिक्किट्ट वि [सनिक्कट्ट] आसन्न, समीप में
स्थित (सुल ४, ८)।

सनिक्खत्त वि [सनिक्खत्त] डाला हुआ,
रखा हुआ (कप्प)।

सनिगास वि [सनिक्काश] १ समान, तुल्य
(भग २, १, शाया १, १—पत्र २५, श्रौप,
स ३८१)। २ पु अपवाद (पट्ट)। ३ पुन.
समीप, पास (पउम ३६, २८)।

सनिगास पु [सनिकपे] सयोग, 'सजोग
सनिगासो पडुव सवव एगट्ठा' (एदि १२८
दी)।

सनिचय पु [सनिचय] १ निचय, समूह
(ग्राचा)। २ सग्रह (ग्राचा १, २, ५, १)।
सनिचिय वि [सनिचित] निविड किया हुआ
(पव १५८, जीवस ११६)।

सनिजुज सक [सनि + युज्] अच्छी
तरह जोडना। कवक. सनिजुजत (पिड
४५५)।

सनिज्जक न [सनिज्ज] सहायता करने के
लिए समीप में आगमन, निकटता (स ३८२)।
सनिनाय पु [सनिनाद] प्रतिवचन, प्रतिशब्द
(कप्प)।

सनिभ देखो सनिह (शाया १, १—पत्र
४८, उवा, श्रौप १)।

सनिमहिअ वि [सनिमहित] १ व्याप्त,
पूरण, भरा हुआ। २ पूजित, 'चपा नाम नयरी
पडुरवरभवणसनिमहिया' (श्रौप, शाया १,
१ टी—पत्र ३), 'अत्थि मग्गा जणवओ
गामसतसनिमहिओ' (वसु)।

सनिय देखो सणिय (सिरि ८६०, भवि)।

सनिवट्ट वि [सनिवृत्त] रुका हुआ, विरत।
'यारि वि [चारिन्] प्रतिषिद्ध का वर्जन
करनेवाला (कप्प)।

सनियास देखो सनिगास (पउम ३३,
११६)।

सनिलयण न [सनिलयन] आश्रय, आघार,
'नोभवत्था ससार अतिवयति सम्बदुक्खत्तनि-
लयण' (परह १, ५—पत्र ६४)।

सनिवइय देखो सणिपडिअ (शाया १,
१—पत्र ६५)।

सनिवाइ वि [सनिपातिन्] सयोगी,
सम्बन्धी, 'सम्बक्खरसनिवाइणो' (कप्प, श्रौप,
सम्मत्त १४४)।

सनिवाइ वि [सनिवादिन्] सगत बोलने-
वाला, व्याजवी कहनेवाला (भग १, १—पत्र
११)।

सनिवाइय वि [सनिपातिक] सनिपात रोग
से सम्बन्ध रखनेवाला (शाया १, १—पत्र
५०, तदु १६, श्रौप ८७)। २ भाव-विशेष,
अनेक भावों के सयोग से बना हुआ भाव
(अणु ११३, कम्म ४, ६४, ६८)। ३ पु.
सनिपात, मेल, सयोग (अणु ११३)।

सनिवाइय वि [सनिपातिक] देखो सनि-
वाइ, 'सम्बक्खरसनिवाइयाए' (श्रौप ५६)।

सनिवाडिय वि [सनिपातित] विध्वस्त
किया हुआ (शाया १, १६—पत्र २२३)।
सनियाय पु [सनिपात] सयोग, सम्बन्ध
(कप्प, श्रौप)।

सनिविट्ट न [सनिविट्ट] १ मोहला, रथ्या
(श्रौप)। २ वि जिसने पडाव डाला हो वह,
नगर के बाहर पडाव डालकर पडा हुआ
(कस)। ३ सहत और स्थिर आसन से
व्यवस्थित—बैठा हुआ (शाया १, ३—पत्र
६१, राय २७)।

‘घन्नाएवि ते घन्ना

पुरिसा निस्सीमसत्तिसजुत्ता ।

जे विसमसंकडेमुवि पडियावि

चर्यति एो घम्मं ॥’

(रयण ७३) ।

संकडिय वि [संकटित] सकीएँ किया हुआ (कुप्र ३६०) ।

संकडिल वि [दे] निरिच्छद, छिद्र-रहित (दे ८ १५, सुर ४, १४३) ।

संकडिल्ल वि [सकपित] आकपित (राज) ।

सकण न [शाङ्कन] शका, सदेह (दस ६, ५६) ।

सकणप पु [सकल्प] १ अध्यवसाय, मन-परिणाम, विचार (उवा, कप्य, उप १०३५) । २ सगत आचार, सदाचार (उप १०३५) । ३ अभिलाष, चाह (गउड) । ४ जोगि पु [योनि] कामदेव, कदर्प (पाश्र) ।

सकम सक [सं + क्रम्] १ प्रवेश करना । २ गति करना, जाना । सकमइ, सकमति (पिड १०८, सूअ २, ४, १०) । वक, सकममाण (सम ३६, सुज्ज २, १, रमा) । हेक, संकमित्तए (कस) ।

संकम पु [सक्रम] १ सेतु, पुल, जल पर से उतरने के लिए काष्ठ आदि से बाधा हुआ मार्ग (से ६, ६५, दस ५, १, ४, परह १, १) । २ सचार, गमन, गति, ‘पाउल्लाइ सकमट्टाए’ (सूअ १, ४, २, १५, आवक २२३) । ३ जीव जिम कर्म-प्रकृति को बाधता हो उसी रूप से अन्य प्रकृति के दल को प्रयत्न द्वारा परिणमाना, बंधी जाती कर्म-प्रकृति में अन्य कर्म-प्रकृति के दल को डाल कर उसे बंधी जाती कर्म-प्रकृति के रूप से परिणत करना (ठा ४, २—पत्र २२०) ।

सकमग वि [सक्रामक] सक्रमण-कर्ता (धर्मस १३३०) ।

सकमण न [सक्रमण] १ प्रवेश, ‘नवरं मुत्तू धर परसकमण कय तेहिं’ (सवीष १४) । २ सचार, गमन (प्राद १०५) । ३ चारित्र, धम (आचा) । ४ देखो सक्रम का तीसरा अर्थ (पच ३, ४८) । ५ प्रतिविम्बन (गउड) ।

सकर पु [दे] रथ्या, मुहल्ला (दे ८, ६) ।

संकर पु [शाङ्कर] १ शिव, महादेव (पउम ५, १२२, कुमा, सम्मत्त ७६) । २ वि. सुख करनेवाला (पउम ५, १२२, दे १, १७७) ।

सकर पु [सकर] १ मिलावट, मिश्रण (परह १, ५—पत्र ६२) । २ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक दौप (उवर १७६) । ३ शुभाशुभ-रूप मिश्र भाव (सिरि ५०६) । ४ अशुचि-पुज, कचरे का ढेर (उत्त १२, ६) ।

सकरण न [सकरण] अच्छी कृति (सबोध ६) ।

सकरिण पु [सकपण] भारतवर्ष का भावी नववा बलदेव (सम १५४) ।

सकरी ली [शाङ्करी] १ विद्या-विशेष (पउम ७, १४२, महा) । २ देवी-विशेष । ३ सुख करनेवाली (गउड) ।

सकल सक [स + कलय] सकलन करना, जोडना । सकलेइ (उव) ।

सकल पुंन [शृङ्खल] १ साकल, निगड । २ लोहे का बना हुआ पाद-बन्धन, वेडी (विपा १, ६—पत्र ६६, धमवि १३६, सम्मत्त १६०, हे १, १८६) । ३ सिकडी, आशुषण-विशेष (सिरि ८११) ।

सकलण न [सकलन] मिश्रता, मिलावट (माल ८७) ।

सकला ली [शृङ्खल] देखो सकल = शृङ्खल (स १७१, सुपा २६१, प्राप) ।

सकलिअ वि [सकलित] १ एकत्र किया हुआ (उप पृ ३४१, लडु २) । २ युक्त, ‘तय्य य भमिओ त पुण कायडिईकालसखसकलियो’ (सिखला १०) । ३ योजित, जोडा हुआ (सिरि १३४०) । ४ सगृहीत (उव) । ५ न. सकलन, कुल जोड (वव १) ।

सकलिआ ली [सकलिआ] १ परपरा (पिड २३६) । २ सकलन । ३ सुनकृतगत सूत्र का पनरहवा अध्ययन (राज) ।

सकलिआ } ली [शृङ्खलिका, ली] साकल,
सकली } सिकडी, जंजीर, निगड (सूअ १, ५, २, २०, प्रामा) ।

सकहा ली [सकथा] सभाषण, बार्तालाप (पउम ७, १५८, १०६, ६; सुर ३, १२६, उप पृ ३७८, पिड १६४) ।

सका ली [शाङ्का] १ सशय, सदेह (पवि) । २ भय, डर (कुमा) । ३ लुअ वि [वत्] शकावाला, शका युक्त (गउड) ।

सकाम देखो सकम = सं + क्रम् । सकामइ (सुज्ज २, १, पच ५, १४७) ।

सकाम सक [सं + क्रमय] सक्रम करना, बंधी जाती कर्म प्रकृति में अन्य प्रकृति के कर्म-दलो को प्रसिप्त कर उस रूप में परिणत करना । सकामेत्ति (भग) । भूका सकामिपु, (भग) । भवि सकामेत्तति (भग) । कक्क, सन्नासिज्जमाण (ठा ३, १—पत्र १२०) । सकामण न [सक्रमण] १ सक्रम-करण (भग) । २ प्रवेश करना (कुप्र १४०) । ३ एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना (पचा ७, २०) ।

सकामणा ली [सक्रमणा] सक्रमण, फेक (पिड २८) ।

सकामणी ली [सक्रमणी] विद्या-विशेष जिससे एक से दूसरे में प्रवेश किया जा सक वह विद्या (आया १, १६—पत्र २१३) । सकामिय वि [सक्रमित] एक स्थान से दूसरे स्थान में नीत (राज) ।

सकार देखो सकार = सस्कार (धर्मस ३५५) । सकास वि [सकाश] १ समान, तुल्य, सरोबा (पाश्र, आया १, ५, उत्त ३४, ४, ५, ६, कप्य, पच ३, ४०, धर्मवि १८६) । २ पु. एक श्रावक का नाम (उप ४०३) ।

सकासिया ली [सकाशिका] एक जैन मुनि-शाला (कप्य) ।

सकि वि [शङ्किन्] शका करनेवाला (सुप १, १, २, ६, गा ८७३, सदाप ३४० गउड) ।

सकिअ वि [शङ्कित] १ शकावाला, शका-युक्त (भग, उवा) २ न सशय, सदेह (पिड ४६३, महा ६८) । ३ भय, डर (गा ३३३) । ‘सकिअम वि नेव दविमस्स’ (था १८) ।

सकिट्ट वि [सकट्ट] विलिखित, जोडा हुआ, लेती किया हुआ (भोप, आया १, १ टी-पत्र १) ।

सपणुण्ण वि [सप्रनुन्न] प्रेरित, उत्तेजित, 'श्रक्तञ्चडानिलसपणुण्णविलोलजालासयस-कुलम्मि' (उप ४५) ।

सपणुण्ण } सक [सप्र + नुद] प्रेरणा
सपणोण्ट } करना । सक सपणुण्णिया,
सपणोण्णिया (दस ५, १, ३०) ।

सपण्ण देखो सपन्न (णाय १, १—पत्र ६,
हेका ३३१, नाट—मृच्छ ६) ।

सपण्णा छी [दे] धेवर या धीवर (मिष्ठान्त-
विशेष) बनाने का घाटा, गेहूँ का वह घाटा
जिनका घृतदूर जनता है (दे ८, ८) ।

सपन्न वि [सप्राप्त] १ सम्यक् प्राप्त (णाय १,
१, उवा, विपा १, १, महा, जो ५०) ।
२ समागत, आया हुआ (सुपा ४१६) ।

सपत्त पुन [सपात्र] सुन्दर पान, सुपात्र
(सुपा ४१६) ।

सपत्ति छी [सपत्ति] १ समृद्धि, वैभव,
नवदा (पात्र, प्राप् ६६, १२८) । २ सत्तिद्धि ।
३ पूति, तब दोहलसस सपत्ती भविस्सइ'
(विपा १, २—पत्र २७) ।

सपत्ति छी [सप्राप्ति] लाभ, प्राप्ति (चेइय
८६४, सुपा ११०) ।

सपत्तिआ छी [दे] १ बाला, कुमारी, लडकी
(दे ८, १८, वज्जा ११६) । पिप्पली-पत्र,
पोपल गी पत्ती (दे ८, १८) ।

सपरियअ न [दे] शीघ्र, जलदो (दे ८, ११) ।

सपरिथय } वि [सपरिथय] १ जिसने
सपरिथय } प्रयाण किया हो वह, प्रयात,
प्रस्थित (अत २१, उप ६६६, सुपा १०७,
६५१, णाय १, २—पत्र ३२) । उपस्थित,
'गरियावहहि जइवि हु रम्मिअइ पजरोवरच्छो
(१ वडो)वि । तहवि हु मरइ निक्क पुरिसो
मपरियए तले ॥'

(पउम ११, ६१) ।

सपद थ [नाप्रनम्] १ युक्त, उचित (प्राक
१२) । २ धनुना, भव (अनि ५६) ।

सपदत्त वि [सप्रदत्त] दिया हुआ, प्रपित
(ग्रा, प्रा) ।

सपदाण रेणो सपयाण (णाय १, ८—पत्र
१५०, माया २, १५, ५) ।

सपदाय पुं [सप्रदाय] गुरु पररागत उपदेश,
श्राम्नाय (सवोध ५३, धर्मस १२३७) ।

सपदावण न [संप्रदापन, सप्रदान] कारक-
विशेष, 'ततिआ करणम्मि कता चउथी
सपदावणे' (ठा ८—पत्र ४२७) ।

सपदि देखो सपइ = सप्रति (प्राक १२) ।

सपदि देखो सपत्ति = सपत्ति (सुखि ६, पि
२०४) ।

सपधार देखो सपहार = सप्र + धारय् ।
सपधारदि (शौ) (नाट—मृच्छ २१६) ।
कर्म सपधारीअदु (शौ) (पि ५४३) ।

सपधारणा छी [सप्रधारणा] व्यवहार-विशेष,
धारणा व्यवहार (वव १०) ।

सपधारिय वि [सप्रधारिन] निश्चित, निर्णीत
(सण) ।

सपधूमिय वि [सप्रधूमित] धूप-वासित,
धूप दिया हुआ (कस, कप्प, आचा २, २,
१, १) ।

सपन्न वि [सपन्न] १ सपत्ति-युक्त (भग,
महा, वप्प) । २ सत्तिद्धि (विपा १, २—पत्र
२६) ।

सपप्प देखो सपाव ।

सपपुञ्ज अक [सप्र + पुञ्] सत्य ज्ञान
को प्राप्त करना । सपपुञ्जति (पचा ७, २३) ।

सपमज्ज सक [सप्र + मज्ज] मार्जन करना,
झाडना, साफ-सूफ करना । सपमज्जेइ (श्रौप
४) । सक. सपमज्जेत्ता, सपमज्जिय
(श्रौप, आचा २, ४, ५) ।

सपमार सक [सप्र + मारय्] मूर्च्छित
करना । सपमारए (आचा १, १, २, ३) ।

सपय वि [सप्राप्त] विद्यमान, वर्तमान,
'पाएण सपए विय कालम्मि न याइदीहका-
लएणा' (विसे ५१६) ।

सपय देखो सपद (पात्र, महा, सुपा ५६८) ।
सपयट्ट अक [सप्र + वृत्] सम्यक् प्रवृत्ति
करना । सपयट्टेज्जा (धर्मस ६३१) । वक्क
सपयट्टट (पचा ८, १४) ।

सपयट्ट वि [सप्रवृत्त] सम्यक् प्रवृत्त (सुर
४, ७६) ।

सपया छी [सपद] १ समृद्धि, सपत्ति,
लक्ष्मी, निम्न (उवा, कुमा, सुर ३, ६८,
महा, प्राप् ६६) । २ वाक्यो का विश्राम-

स्थान (पव १) । ३ प्राप्त, 'बोहीलामो
जियुधम्मसपया' (चेइय ६३१, पव ६२) ।
६२) । ४ एक वणिक्-जो का नाम (उप
५६७ टी) ।

सपयाण न [सप्रदान] १ सम्यक् प्रदान,
अच्छी तरह देना, समर्पण (आचा २, १५,
५, गा ६८, सुपा २६८) । २ कारक-विशेष,
चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जाय वह
(विसे २०६६) ।

सपयावण देखो सपदावण, चउथी सपयावणे'
(अणु १३३) ।

सपराइग } वि [सापरायिक] सपराय-
सपराइय } सक्को, सपराय मे उत्पन्न (ठा
२, १—पत्र ३६, सूअ १, ८, ८, भग-
आवक २२६) ।

सपराय पु [सपराय] १ ससार, जगत् (सूअ
१, ५, २, २३, दस २, ५) । २ क्रोध आदि
कषाय (ठा २, १—पत्र ३६) । ३ बादर
कषाय, स्थूल कषाय (सूअ १, ८, ८) । ४
कषाय का उदय (श्रौप) । ५ युद्ध, संग्राम,
लडाई (णाय १, ६—पत्र १५७, कुप्र
४००, विक्क ८८, दस २, ५) ।

सपरिकित्ति पु [सपरिकीत्ति] राक्षस वश
का एक राजा, एक लका-पति (पउम ५,
२६०) ।

सपरिक्ख सक [सपरि + ईक्ष्] सम्यक्
परीक्षा करना । सक. सपरिक्खाए (संवोध
२१) ।

सपरिक्खित्त } वि [सपरिक्षित्त] वेष्टित
सपरिखित्त } (भग, पउम, ३, २२, णाय
१, १ टी—पत्र ४) ।

सपरिफुड वि [सपरिस्फुट] सुस्पष्ट, अति
व्यक्त (पउम ७८, १६) ।

सपरिवुड वि [सपरिवृत्] १ सम्यक् परि-
वृत्, परिवार-युक्त (विपा १, १—पत्र १,
उवा, श्रौप) । २ वेष्टित (सूअ २, २, ५५) ।
सपरी सक [सपरी + इ] पर्यटन करना,
भ्रमण करना । सपरीइ (विसे १२७७) ।

सपल (अप) अक [स + पत्] आ गिरना ।
सपलइ (पिग) ।

सपलग्ग वि [सप्रलग्न] १ सयुक्त, मिला
हुआ । २ जो लडाई के लिए भिड गया हो
वह (णाय १, १८—पत्र २३६) ।

विशेष (पिंग)। °धमग पु [°ध्मायक] वानप्रस्थ की एक जाति (राज)। °घर पुं [°घर] श्रीकृष्ण, विष्णु (कुमा)। °पाल देखो °वाल (ठा ४, १—पत्र १६७)। °पुर न [°पुर] १ एक विद्याधर नगर (इक)। २ नगर-विशेष जो आजकल गुजरात में सखे-धर के नाम से प्रसिद्ध है (राज)। °पुरी स्त्री [°पुरी] कुरुजगल देश की प्राचीन राजधानी, जो पीछे से अहिच्छत्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी (सिरि ७८)। °माल पु [°माल] वृक्ष की एक जाति (जीव ३—पत्र १४५)। °वण न [°वन] एक उद्यान का नाम (उवा)। °वण्णाभ पुं [°वर्णाभ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष (सुज्ज २०)। °वन्न पु [°वर्ण] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। °वन्नाभ देखो °वण्णाभ (ठा २, ३—पत्र ७८)। °वर पु [°वर] १ एक द्वीप। २ एक समुद्र (दीव, इक)। °वरोभास पु [°वराधभास] १ एक द्वीप। २ एक समुद्र (दीव)। °वाल पु [°पाल] नाग कुमार-देवो के धरण और भूतानन्द नामक इन्द्रो के एक एक लोकपाल का नाम (इक)। °वाल्य पुं [°पालक] १ जैनतर दर्शन का अनुयायी एक व्यक्ति (भृग ७, १०—पत्र ३२३)। एक आजीविक मत का एक उपासक (भग ८, ५—पत्र ३७०)। °लग वि [°वत्] शखवाला (शाया १, ८—पत्र १३३)। °वई स्त्री [°वती] नगरी-विशेष (ती ५)। सख वि [सख्य] सख्यात, गिना हुआ, गिनती-वाला (कम्म ४, ३६, ४१)। सख न [साख्य] १ दर्शन-विशेष, कपिलमुनि-प्रणीत दर्शन (शाया १, ५—पत्र १०५, सुपा ५६६)। २ वि साख्य मत का अनुयायी (श्रौप, कुप्र २३)। सख पुं [दे] भागध, स्तुति-पाठक (दे ८, २)। सखइम वि [सख्येय] जिसकी सख्या हो सके वह (विसे ६७०, अणु ६१ टी)। सखड न [दे] कलह, भगडा (पिड ३२४, श्रौप १५७)। सखडि स्त्री [दे] १ विवाह आदि के उपलक्ष्य में नात-नातेदार आदि को दिया जाता भोज,

जेवनार (आचा २, १, २, ४, २, १, ३, १, ३, ३, पिड २२८, श्रौप १२, ८८, भास ६२)। सखडि स्त्री [ससकृति] श्रोदन-पाक (कप्प)। संखणग पु [शङ्खनक] छोटा शख (उत्त ३६, १२६, परण १—पत्र ४४, जीव १ टी—पत्र ३१)। सखइह पुं [दे] गोदावरी लह (दे ८, १४)। संखबइल पुं [दे] कृषक की इच्छानुसार उठ कर खडा होनेवाला बैल (दे ८, १६)। सखम वि [सक्षम] समर्थ (उप ६८६ टी)। सखय पुं [सक्षय] क्षय, विनाश (से ६, ४२)। सखय वि [ससकृत] सस्कार युक्त, 'णय सखयमाहु जीविय' (सुप्र १, २, २, २१, १, २, ३, १०, पि ४६), 'असखय जीविय मा पमायए' (उत्त ४, १)। सखलय पुं [दे] शम्भूक, शुक्ति के आकार-वाला जल-जन्तु विशेष (दे ८, १८)। सखला देखो सफला (गउड, प्रामा)। संखलि पुं स्त्री [दे] कर्ण-भूषण विशेष, शख-पत्र का बना हुआ ताडक (दे ८, ७)। सखव सक [स + क्षपय] विनाश करना। सक. सखवियाण (उत्त २०, ५२)। संखविअ वि [सक्षपित] विनाशित (अन्नु ८)। सखा सक [स + ख्या] १ गिनती करना। २ जानना। सक. सखाय (सुप्र १, २, २, २१)। क. सखिज्ज, सखेज्ज (उवा, जी ४१, उव, कप्प)। सखा अक [स + ख्ये] १ आवाज करना। २ सहत होना, सान्द्र होना, निविड बनना। सखाइ, सखाअइ (हि ४, १५, षड्)। सखा स्त्री [सख्या] १ प्रज्ञा, बुद्धि (आचा १, ६, ४, १)। २ ज्ञान (सुप्र १, १३, ८)। ३ निर्णय (अणु)। ४ गिनती, गणना (भग, अणु, कप्प, कुमा)। ५ व्यवस्था (सुप्र २, ७, १०)। °इअ वि [°तीत] असख्य (भग १, १ टी, जीव १ टी—पत्र १३, था ४१)। °दत्तिय वि [°दत्तिक] उतनी ही भिज्ञा

लेने का व्रतवाला समयी, जितनी कि अणु गिने हुए प्रलेपो में प्राप्त हो जाय (ठा २, ४—पत्र १००, ५, १—पत्र २६६, श्रौप)। सखाण न [सख्यान] १ गिनती, गणना, सख्या। २ गणित शाख (ठा ४, ४—पत्र २६३, भग, कप्प, श्रौप, पउम ८५, ६, जीवस १३५)। सखाय वि [ससख्यान] १ सान्द्र, सघन निविड (कुमा ६, ११)। २ आवाज करनेवाला। ३ सहत करनेवाला। ४ न स्नेह। ५ निविड-पन। ६ सहति, सघात। ७ आनस्य। ८ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि (हे १, ७४, ४, १५)। सखाय देखो सखा = स + ख्या। सखाय वि [सखाय] सख्या-युक्त (सुप्र १, १३, ८)। सखायण न [शाङ्खायन] गोन विशेष (सुप्र १०, १६, इक)। सखाल पुं [दे] हरिण की एक जाति, साब मृग (दे ८, ६)। सखालग देखो संखालग = शङ्ख-वत्। सखावई देखो सखावई = शङ्खानती। संखाविय वि [सख्यापित] जिसकी गिनती कराई गई हो वह (सुपा ३६२, स ४१६)। सखिग देखो सखिय = शाङ्खिक (स १७१, कुप्र १४६)। सखिज्ज देखो संखा = सं + ख्या। सखिज्जइ वि [सख्येयतम] सख्यातवा (अणु ६१)। सखित्त वि [सक्षिप्त] सक्षेप-युक्त, घाय किया हुआ (उवा, द ३, जी ५१)। सखिय वि [शाङ्खिक] १ मगल के लिए चन्दन-गामित शख को हाथ में धारण करने वाला। शख बजानेवाला (कम्म, श्रौप)। सखिय देखो सख = सख्य (स ६४१, पव २, ११, जीवस १४६)। सखिया स्त्री [शङ्खिका] छोटा शख (जीव ३—पत्र १४६, ज २ टी—पत्र १०१, एव ४५)। सखुडु अक [रम्] मीठा करना, मजेत करना। सखुडइ (हे ४, १६८)।

सपायणा व्ही [सपादना] ऊपर देखो (पचा १३, १७) ।

सपाल सक [स + पालय्] पालन करना । सपालइ (भवि) ।

सपाव सक [स + आप्] प्राप्त करना । सपावेइ (भवि) । सक्क सपप्प (सवेण १२) ।

हेह्क. सपाविउं (सम १, भग, सौप) ।

सपाव सक [सप्र + आपय्] प्राप्त करवाना । सपावेइ (उवा) ।

सपायण न [सप्रपग] प्राप्ति, लाभ (खाया १, १८—पत्र २४१, सुर ४, ५७) ।

सपायिअ वि [सप्राप्त] प्राप्त, लब्ध (सुर २, २२६, सुपा १६५, सण) ।

सपायिअ वि [सप्रापित] नीत जो ले जाया गया हो वह (राज) ।

सपामग वि [दे] दीर्घ, लम्बा (दे ८, ११) ।

सपिण्डण न [सपिण्डन] १ द्रव्यो का परस्पर संयोजन (पिड २) । २ समूह (श्रौष ४०७) ।

सपिण्डिअ वि [सपिण्डित] पिण्डाकार किया हुआ, एकत्र किया हुआ (श्रौष, जी ४७, सण) ।

सपिण्ण देतो सपेह = सप्र + ईत् । सपिण्णइ (दमचू २, १२) ।

सपिट्टि वि [सपिट्ट] पिसा हुआ (सूत्र १, ८, ८) ।

सपिण्ड वि [सपिनद्ध] नियन्त्रित, 'रज्जु-पिण्डो व इदमेव विमुद्धयेगपुणसपिण्ड' (पण्ड २, ८—पत्र १३०) ।

सपिण्डा मरु [सपिण + वा] आच्छादन करना, ढकना । सक्क सपिण्डाण (पि ५८३) ।

सर्पाड पु [सर्पाड] सर्पजन, दवाना (गउड) ।

सर्पाडिअ वि [सर्पाडित] दवाया हुआ (गउड १८६) ।

सप्राणिअ वि [सप्राणित] पुत्र किया हुआ (सण) ।

सर्पाड पु [सर्पाड] नमाव, समूह (उत्त ३३, २) ।

सर्पाड गो [सर्पाड] बीजा, डु जानुभव (उत्त ३३, ६, ५२, ६५, ७८) ।

सपुच्छ सक [स + प्रच्छ] पूछना, प्रश्न करना । सपुच्छदि (शौ) (नाट—विक्र २१) ।

सपुच्छण व्हीन [सप्रच्छन, सप्रश्न] प्रश्न, पूछा (सूत्र १, ६, २१, सुपा २१) ।

व्ही णी (दस ३, ३) ।

सपुच्छणी व्ही [सपुच्छन] भाइ, समान्नी (राय २१) ।

सपुज्ज वि [सपुज्ज] समाननीय, आदरणीय (पउम ३३, ४७) ।

सपुड पु [सपुट] १ जुड़े हुए दो समान अश वाली वस्तु, दो समान अशो का एक दूसरे से जुडना, 'कवाडसपुडघण्णिम' (घण ३), 'दलसपुडे' (कप्प, महा, भवि, से ७, ५६) ।

२ सचय, समूह (सूत्र १, ५, १, २३) ।

फल्लग पु [फल्लग] दोनो तरफ जिल्द बंधी पुस्तक, हिसाब की वही के समान किताब (पव ८०) ।

सपुड सक [सपुटय्] जोडना, दोनो हिस्सो को मिलाना । सपुडइ (भवि) ।

सपुडिअ वि [सपुटित्त] जुडा हुआ (खाया १, १—पत्र ६३) ।

सपुण्ण वि [सपूर्ण] १ पूर्ण, पुरा (उवा, महा) । २ न दश दिनों का लगातार उपवास (सवोष ५८) ।

सपूअ सक [स + पूजय्] सम्मान करना, अभ्यर्चना करना । सक्क सपूअण (पचा ८, ७) ।

सपूजिय वि [सपूजित] अभ्यर्चित (महा) ।

सपूयण न [सपूजन] पूजन, अभ्यर्चन (सूत्र १, १०, ७, वमंस ६३४) ।

सपूरिय वि [सपूरित] पूर्ण किया हुआ, 'सपूरियदोहला' (महा, सण) ।

सपेह पु [सपीड] दवाव (पउम ८, २७२) ।

सपेस सक [सप्र + इप्] भेजना । सपेसइ (महा, भवि) ।

सपेस पु [सप्रेय] प्रेषण, भेजना (खाया १, ८—पत्र १४७) ।

सपेसण न [सप्रेपण] ऊपर देखो (खाया १, ८—पत्र १६६, स ३७६, गउड, भवि) ।

सपेसिय वि [सप्रेपित्त] भेजा हुआ (सुर १३, ११५) ।

सपेह सक [सप्र + ईत्] देखना, निरीक्षण करना । सपेहइ, सपेहेइ (दसचू २, १२, पि ३२३, भग, उवा, कप्प) । सट्ट. सपेहाए, सपेहिच्चा (आचा १, २, ४, ४, १, ५, ३, २, सूत्र २, २, १, भग) ।

सपेहा व्ही [सप्रेक्षा] पर्यालोचन (आचा १, २, २, ६) ।

सफ न [दे] कुमुद, चन्द्र-कमल (दे ८, १) ।

सफाल सक [स + पाटय्] फाडना, चीरना । सफालइ (भवि) ।

सफाली व्ही [दे] पतित, श्रेणि (दे ८, ५) ।

सफास सक [स + स्पृश्] स्पर्श करना, छूना, 'माड्डाण सफासे' (आचा २, १, ३, ३, २, १, ५, ५, २, १, ६, २, ४, ५) ।

सफास पु [सस्पृश] स्पर्श (आचा, उप ६४८ टी, पव २ टी, हे १, ४३, पडि) ।

सफासण न [सस्पृशण] ऊपर देखो, 'आणानोरियसफासणभावतो' (पचा १०, २८) ।

सफिट्ट पु [दे] संयोग, मेलन (आ १६) ।

सफुल्ल वि [सफुल्ल] विकसित (भाक्क १४) ।

सफुसिय वि [समृष्ट] प्रमाजित, 'दसणकर-नियरसफुसियदिसिमुहमला' (सुपा २६३) ।

सव पु [शाम्ब] १ श्रीकृष्ण वासुदेव का एक पुत्र (खाया १, ५—पत्र १००, अत १४) ।

२ राजा कुमारपाल के समय का एक सेठ (कुप्र १४३) ।

सव पुन [शाम्ब] वज्र, इन्द्र का आयुध (सुर १६, ५०) ।

सवध सक [स + वन्ध्] १ जोडना । २ नाता करना । कर्म सवज्जइ (चेइय ७२७) ।

सवध पु [सवन्ध] १ ससर्ग, सग (भवि) । २ संयोग (कम्म १, ३५) । ३ नाता, सगाई, रिश्तेदारी (स्वप्न ४३) । ४ योजना, मेल (वव ५) ।

सवधि वि [सवन्धियन्] सम्बन्ध रखनेवाला (उवा, सम्म ११७, स ५३६) ।

सवर पु [शाम्बर] मृग-विशेष, हरिण की एक जाति (पण्ड १, १—पत्र ७, दे ८, ६, कुप्र ४२६) ।

संगहिअ वि [सग्रहिक] सग्रहवाला, सग्रह-
नय को माननेवाला (विसे २८५२) ।

सगहिअ वि [सगृहीत] ? जिसका सचय
किया गया हो वह (हे २, १६८) । २
स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ (सण) । ३
पकड़ा हुआ, 'सगहिअो हत्थी' (कुप्र ८१) ।
देखो सगिहीअ ।

सगा सक [स+गै] गान करना । कवक
सगिज्जमाण (उप ५६७ टी) ।

सगा ली [दे] बल्गा, घोड़े की लगाम (दे
८, २) ।

सगाम सक [सड्ग्रामय] लडाई करना ।
सगामेड (भग लडु ११) । वक, सगामेमाण
(आया १, १६—पत्र २२३, निर १, १) ।

सगाम पु [सड्ग्राम] लडाई, युद्ध (आत्ता,
पाम, महा) । 'सूर पु [शूर] एक राजा
का नाम (श्रु २८) ।

सगामिय वि [साडग्रामिक] सग्राम-सचवो,
लडाई से सन्ध रखनेवाला (ठा ५, १—पत्र
३०२, श्रौप) ।

सगामिया ली [साडग्रामिकी] श्लोकणा
वासुदेव की एक भेरी, जो लडाई की खबर
 देने के लिए बजाई जाती थी (विसे १४७६) ।

सगामुडुामरी ली [सड्ग्रामोडुामरी] विद्या-
विशेष, जिसके प्रभाव से लडाई में आसानी
से विजय मिलती है (सुपा १४४) ।

सगार पुं [दे] सकेत (ठा ४, ३—पत्र
२४३, आया १, ३, श्रौषभा २२, सुख २,
१७, सूअनि २६, धर्मस १३८८ उप ३०६) ।

सगहि वि [सग्राहिन] सग्रह-कर्ता (विसे
१५३०) ।

सगि वि [सजिअ] सग-युक्त (भग, सबोध
७, कप्पु) ।

सगिज्जमाण देखो सगा = स + गै ।

सगिण्ह देखो सगह = स + गह । सगिण्ह
(विसे २२०३) । कर्म, सगिण्हते (विसे
२२०३) । वक सगिण्हमाण (भग ५,
६—पत्र २३१) । सक सगिण्हत्ताण (पि
५८३) ।

सगिण्हण न [संग्रहण] आशय-दान (ठा
८—पत्र ४४१) । देखो सगहण ।

सगिह वि [सङ्गवन्] बद्ध, सग युक्त
(पाम) ।

सगिह देखो सगोह (राज) ।

सगिह्ठी देखो सगोह्ठी (राज) ।

सगिहीय वि [सगृहीत] ? आश्रित (ठा
८—पत्र ४४१) । २ देखो सगहिअ =
सगृहीत ।

सगोअ न [सगोत्] ? गाना, गान-तान
(कुमा) । २ वि जिसका गान किया गया
हो वह, 'तेण सगोअो तुह चेव गुणगामो'
(सुपा २०) ।

सगुण सक [स+गुणय] गुणकार
करना । सगुणए (सुज्ज १०, ६ टी) ।

सगुण वि [सगुण] ग्रणित, जिसका गुणकार
किया गया हो वह (सुज्ज १०, ६ टी) ।

सगुणिअ वि [सगुणित] ऊपर देखो (श्रौष
२१, देवेन्द्र ११६, कम्म ५, ३७) ।

सगुत्त वि [सगुत्त] ? छिपाया हुआ,
प्रच्छन्न रखा हुआ (उप ३३६ टी) । २
शुक्ति-युक्त, अकुशल प्रवृत्ति से रहित (पव
१२३) ।

सगोह पु [दे] समूह, समुदाय (दे ८, ४,
वव १) ।

संगोही ली [दे] ? परस्पर अवलम्बन,
'हृत्थसगोह्लीए' (आया १, ३—पत्र ६३) ।
२ समूह, समुदाय (भग ६, ३३—पत्र
४७४, श्रौप) ।

सगोहण वि [दे] त्रणित, त्रण-युक्त (दे
८, १७) ।

सगोफ्फ पु [सगोफ] कव-विशेष, मकंठ-
सगोफ } कव रूप गुम्फन (उत्त २२, ३५) ।

सगोह न [दे] सघात, समूह (पह) ।

सगोह्ठी ली [दे] समूह, सघात (दे ८, ४) ।
सगोव सक [स+गोपय] ? छिपाना,
गुप्त रखना । २ रक्षण करना । सगोवड
(प्राक ६३) । वक सगोवमाण, सगोवमाण
(आया १, ३—पत्र ६१, विपा १, २—
पत्र ३१) ।

सगोवग वि [सगोपक] रक्षण-कर्ता (आया
१, १८—पत्र २४०) ।

सगोवाव देखो सगोव । सगोवावसु (स
८६) ।

सगोविअ वि [सगोपित] ? छिपाया हुआ
(स ८६) । २ संरक्षित (महा) ।

सगोवित्तु } वि [सगोपयित्] सखण-कता
सगोवेत्तु } (ठा ७—पत्र ३८५) ।

सघ सक [कथ] कहना । सघड (हे ४,
२), संघसु (कुमा) ।

संघ पुं [सघ] ? साधु, साध्वी, श्रावक और
श्राविकाओं का समुदाय (ठा ४, ४—पत्र
२८१, एदि, महानि ४, सिग्घ १, ३, ५) ।
२ समान धर्मवालो का समूह (धमस
६८८) । ३ समूह, समुदाय (सुपा १८०) ।
४ प्राणि-समूह (हे १, १८७) । 'दास पु
[दास] एक जैन मुनि और ग्रथ-यता (ति
३, राज) । 'पालिय, 'वालिय पु [पालि]
एक प्राचीन जैन मुनि, जो आर्यवृद्ध मुनि के
शिष्य थे (कप्प, राज) ।

सघअ वि [सहत्] निविड, साद्र (से १०,
२६) ।

सघस पु [सघर्ष] ? घिसाव, राबड । २
आघात, धक्का (आया १, १—पत्र ६५,
धा २८) ।

सघट्ट सक [स+घट्ट] ? स्पर्श करना,
छूना । २ अक आघात लगाना । सघट्ट
(भवि), सघट्टेड (आया १, ५—पत्र ११२,
भग ५, ६—पत्र २२६), सघट्टए (वस ८,
७) । वक सघट्टत (पिड ५७५) । सह
सघट्टिऊण (पव २) ।

सघट्ट पु [सघट्ट] ? आघात, धक्का, सघ
(उव, कुप्र १६, धर्मवि ५७, सुपा १५) ।
२ अर्ध जघा तुक का पानी (श्रौषभा ३५) ।
३ दूसरा तरक का छठवां नरनेन्द्रक—न्यान
विशेष (देवेन्द्र ६) । ४ भीड, जगबडा
(भवि) । ५ स्पर्श (राय) ।

सघट्ट वि [सघट्टित] सलगन (भवि) ।

संघट्टण न [सघट्टन] ? सघदन, सर्प
(आया १, १—पत्र ७१, पिड ५८६) । २
स्पर्श करना (राज) ।

सघट्टगा ली [सघट्टता] सघतन, सवाट
'गन्ने सघट्टणा उ उट्टवुवेसमाणीए' (पिड
५८६) ।

सघट्टा ली [सघट्टा] बल्लो-विशेष (एए
१—पत्र ३३) ।

(पि १७५, काल, भवि)। वक्र सभवत (सुपा ५६)। कृ सभव्य (श्रा १२, सूत्रि ६५)।

सभव पु [सभव] १ उत्पत्ति (महा, उव, हे ४, ३६५)। २ सभावना (भवि)। ३ वर्तमान अवस्थापिणी काल में उत्पन्न तीसरे जिनदेव का नाम (सम ४३, पडि)। ३ एक जैन मुनि जो दूसरे वासुदेव के पूर्व-जन्म के गुरु थे (पउम २०, १७६)। ५ कला-विशेष (श्रौप)।

सभव प्र [दे] प्रसव-जरा, प्रसूति से होने-वाला बुढापा (दे ८, ४)।

सभव (अप) देखो सभम = सभ्रम (भवि)। सभवि वि [सभविन्] जिसका सम्भव हो वह (पच ५, २५, भास ३५)।

सभविज देखो सभूअ (वेइय ५५६)।

सभव्य देखो सभव = स + भू।

सभाग्य न [सभाग्य] गुजरात का एक प्राचीन नगर (राज)।

सभार मक [स + भार्य] मसाला से सस्कृत करना, वासित करना। सभारेड, सभारेति सभारेह (शाया १, १२—पत्र १७५, १७६)। सङ्क. सभारिय (पिड १६३)। कृ सभारिज्ज (शाया १, १२)।

सभार १ [सभार] १ समूह, जल्था, 'उत्तुग-अन्तसभारभासमाण करावए राया' (उप ६४८ टो श्राजक १३०)। २ मसाला, शाक आदि में ऊपर चला जाता मसाला (शाया १, १६—पत्र १६६)। ३ परिग्रह, द्रव्य-सचय (पस १ ५—पत्र ६२)। ४ अवरयतया कर्म का रदन (सूत्र २, ७, ११)।

सभार २ वि [सभारित] याद किया हुआ (से १८, ६१)।

सभारि ३ वि [सभारित] याद कराया हुआ (शाया १, १—पत्र ७१, सुर १४, २३५)।

सभाल मक [स + भाल्य] सभालना। सभाल (भवि)।

सभा [सभा] सोच, मन्येपण, 'उदिए तूरणि ज्ञान जणणीए पामपणामनिमित्तं मभाया सान सभाला जामो तत्त, न कव्ववि जणणी त्ति ज्ञानज्ज' (उा २२० टो)।

सभालिय वि [सभालिन] सभाला हुआ (सण)।

सभाव सक [स + भाव्य] १ सभावना करना। २ प्रसन्न नजर से देखना, 'न सभावसि अवरुहे' (मोह ६), सभावमि (सवेग ४), सम्भावेहि मोह २६)। कर्म सभावीअदि (शौ) (नाट—मृच्छ २३०)। वक्र. सभावअत (नाट—शकु १३४)। सङ्क. सभाविय (नाट—शकु ६७)। कृ. सभावणिज्ज, सभावणीय (उप ७६८ टो, स ६१, श्रा २३)।

सभाव अक [लुभ्] लोभ करना, आसक्ति करना। सभावइ (ह ४, १५३, पड्)।

सभावणा छी [सभावना] सभव (से ८, १६, गउड)।

सभावि वि [सभाविन्] जिसका सभव हो वह (श्रा १४)।

सभाविय वि [सभाविन्] जिसकी सभावना की गई हो वह (नाट—विक्र ३४)।

सभाम सक [स + भाप्] बातचीत करना, आलाप करना। कृ सभासणीय (सुपा ११५)।

सभास पु [सभाप] सभाषण, वार्तालाप (उप ११२, सवोव २१, सण, काल, सुपा ११५, ५४२)।

सभासण न [सभापण] ऊपर देखो (भवि)।

सभासा छी [सभापा] सभाषण, बातचीत (श्रौप)।

समासि वि [सभाप] सभाषण, 'समासि-त्साणरिहो' (काल)।

सभासिय वि [सभापित] जिसके साथ सभाषण—वार्तालाप किया गया हो वह (महा)।

सभिडण न [सभेडन] आघात (गउड)।

सभिण्ण वि [सभिन्न] १ परिपूर्ण (पव सभिन्न १६८)। २ किंचिद् न्यून, कुछ कम (देवेन्द्र ३४२)। ३ व्याप्त। ४ विल-कुल निद्र—भेदवाला (परह २, १—पत्र ६६)। ५ सजित (दसहू १, १३)। 'सोअ नि [श्रोतम श्रोतु] लट्टि विशेषवाला, शरीर के कोई भी अंग में शब्द को स्पष्ट रूप

से सुनने की शक्तिवाला (परह २, १—पत्र ६६, श्रौप)।

सभिन्न न [दे] आघात (गउड ६३४ टो)।

सभिय वि [सभृत] १ पुष्ट, 'आरभसभिया' (सूत्र १, ६, ३)। २ सस्कार-युक्त, सस्कृत; 'बहुसमारसभिए' (शाया १, १६—पत्र १६६, स ६८, विसे २६३)।

समु पु [शम्भु] १ शिव, शकर (सुपा २४०, सार्ध १३५, समु १५०)। २ रावण का एक सुभट (पउम ५६, २)। ३ छन्द-विशेष (पिण)। 'वरिणी छी [गृहिणी] गौरी, पार्वती (सुपा ४४२)।

समुज सक [स + मुज्] साथ भोजन करना, एक मण्डली में बैठकर भोजन करना। समुजइ (कस)। हेङ्क. समुजित्तए (सूत्र २, ७, १६, ठा २, १—पत्र ५६)।

समुजणा छी [सभोजना] एकत्र भोजन-व्यवहार (पंच)।

समुळ वि [दे] दुर्जन, खल (दे ८, ७)।

सभूअ वि [सभूत] १ उत्पन्न, सजात (सुपा ४०, ५०७, महा)। २ पुं. एक जैन मुनि जो प्रथम वासुदेव के पूर्वजन्म में गुरु थे (सम १५३, पउम २०, १७६)। ३ एक प्रसिद्ध जैन महर्षि जो स्थूलभद्र मुनि के गुरु थे (धर्मवि ३८, सार्ध १३)। ४ व्यक्ति-वाचक नाम (महा)। 'विजय पु [विजय] एक जैन महर्षि (कुप्र ४५३, विपा २, ५)।

सभूइ छी [सभूति] १ उत्पत्ति (पउम १७ ६८, गा ६५७, सुर ११, १३५, पव २४४)। २ श्रेष्ठ विभूति (सार्ध १३)।

सभूस सक [स + भूप] अलंकृत करना। सभूसइ (सण)।

सभोअ पु [सभोग] सुन्दर भोग (सुपा ४६८, कप्पु)। देखो सभोग।

सभोअ वि [सभोगिक] समान सामाचारी-क्रियानुष्ठान होने के कारण जिसके साथ खान-पान आदि का व्यवहार हो सके ऐसा साधु (श्रीघना २०, पचा ५, ४१, द्र ५०)।

सभोग पु [सभोग] समान सामाचारीवाले साधुओं का एकत्र भोजनादि-व्यवहार (सम २१, श्रौप, कस)।

२४; सुर ३, ७६, नाट—चैत १३०) । क
सचरणिज्ज, सचरिअव्व (नाट—वेणी
१४, से १४, २८) ।

सचरण न [सचरण] १ चलना गति । २
सम्यग् गति (गउड, पि १०२, कप्पू) ।

सचरिअ वि [सचरित] चला हुआ, जिसने
सचरण किया हो वह (उप पृ ३५८, रुक्मि
५६, भवि) ।

सचलण न [सचलन] सचार, गति (गउड) ।

सचालिअ वि [सचलित] चला हुआ (सुर
३, १४०, महा) ।

सचल सक [स+चल] चलना, गति
करना । सचल्लइ (भवि) ।

सचल्ल (अप) देखो सचलिय (भवि) ।

सचल्लिअ देखो सचल्लिअ (महा) ।

सचाइय वि [सशक्ति] जो समर्थ हुआ
हो वह (भग ३, २ टी—पत्र १७८) ।

सचाय अक [स+शक्] समर्थ होना ।
संचाएइ (भग, उवा, कस), सचाएमो (सूअ
२, ७, १०, णाय १, १८—पत्र २४०) ।

सचाय पुं [सत्याग] परित्याग (पचा १३,
३४) ।

सचार सक [सं+चारय] सचार कराना ।
सचारइ (भवि) । सक सचारि (अप)
(पिग) ।

सचार पु [सचार] सचरण, गति (गउड,
महा, भवि) ।

सचारि वि [सचारिन्] गति करनेवाला
(कप्पू) ।

सचारिअ वि [सचारित] जिसका सचार
कराया गया हो वह (भवि) ।

सचारिम वि [सचारिम] सचार-योग्य, जो
एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान में रखा
जा सके वह (पिड ३००, सुपा ३५१) ।

सचारी वी [दे] हूत-कर्म करनेवाली वी
(पाअ, पड) ।

सचाल सक [स+चालय] चलाना ।
संचालइ (भवि) । कवक सचालिज्जत,
सचालिज्जमाण (से ६, ३६, णाय १,
६—पत्र १५६) ।

सचालिअ वि [सचालिअ] चलाया हुआ
(से ४, २७) ।

सचिअ वि [सचित] सगृहीत (ओष ३२६
भवि, नाट—वेणी ३७, सुपा ५५२) ।

सचितण न [सचिन्तन] चिन्तन, विचार
(हि २२) ।

सचितणया वी [सचिन्तना] ऊपर देखो
(उत्त ३२, ३) ।

सचिक्ख अक [स+स्था] रहना, ठहरना,
अच्छी तरह रहना, समाधि से रहना ।

सचिक्खइ (आवा १, ६, २, २) । सचिक्खे
(उत्त २, ३३, ओष ६६) ।

सचिज्जमाण देखो सचिण ।

सचिट्ठ देखो सचिक्ख । सचिट्ठइ (भग, उवा,
महा) ।

सचिट्ठण न [सस्थान] अवस्थान (पि ४८३) ।

सचिण सक [स+चि] १ सग्रह करना,
इकट्ठा करना । २ उपचय करना । सचिणइ,
सचिणइ, सचिणति (श्रु १०७, पि ५०२) ।

सक सचिणिता (सूअ २, २, ६५, भग) ।
कवक सचिज्जमाण (आवा २, १, ३, २) ।

सचिणिय वि [सचित] सगृहीत (स ४७३) ।

सचिन्न वि [सचोर्ण] आचरित (सण) ।

सचुणण सक [स+चूर्णय] चूर-चूर
करना, खड-खड करना, टुकड़ा-टुकड़ा करना ।
कवक सचुणिणज्जत (पउम ५६, ४४) ।

सचुणिणअ } वि [सचूर्णित] चूर-चूर
सचुण्णिअ } किया हुआ (महा, भवि,
णाय १, १—पत्र ४७, सुर १२, २४१) ।

सचेयणा वी [सचेतना] अच्छी तरह सूच,
भान, 'लद्धसचेयणा' (सिदि ६५७) ।

सचोइय वि [सचोदित] प्रेरित (ठा ४, ३
टी—पत्र २३८) ।

सखइय } वि [सखन्न] ढका हुआ (उप
सखण्ण } पृ १२३, सुर २, २४७, सुपा
सखन्न } ५६२, महा, सण) ।

सख्खाइय वि [सख्खादित] ढका हुआ (सुपा
५६२) ।

सख्खाय सक [स+ख्खादय] ढकना । कक
सख्खायत (पउम ५६, ४७) ।

सख्खइ सक [स+खिप्] एकत्रित कर

छोडना, इकट्ठा करना, 'सख्खई एण्णहिंमि'
(पिड ३११) ।

सख्खोभ पुं [सख्खेप] अच्छी तरह फेंकना,
क्षेपण (पच ५, १५६, १८०) ।

सख्खोभग वि [सख्खेपक] प्रक्षेपक (राज) ।
सख्खोभण न [सख्खेपण] परावर्तन (राज) ।

सजइ पुव्वी [सयति] उत्तम साधु, भुक्ति,
'सजइए दव्वलिगीएमतर मेवसरिसवसरिक्ख'
(संकोष ३६) ।

सजई वी [सयतो] साधु (ओष १,
महा, ३ २७) ।

सजणग वि [सजणक] उत्पन्न करनेवाला
(सुर ११, १६६) ।

सजणण न [सजणन] १ उत्पत्ति । २ वि,
उत्पन्न करनेवाला (सुर ६ १४२, सुपा
३८२) । वी 'णी (रत्न २८) ।

सजणय देखो सजणग (विद्य ६१५, सुपा
३८, सिक्खा २६) ।

सजणिय वि [सजणित] उत्पादित (अणु
१४६, सण) ।

सजत्त सक [दे] तैयार करना । संवदे
(स २२) ।

सजत्ता वी [सयात्रा] जहाज की मुसाफिरी
(णाय १, ८—पत्र १३२) ।

सजत्ति वी [दे] तैयारी, 'आणत्ता निय-
पुरिसा सजत्ति कुएह गमणत्थ' (सुर ७,
१३०, स ६३५, ७३५, महा) । देखो
सजुत्ति ।

सजत्तिअ वि [दे] तैयार किया हुआ (स
४४३) ।

सजत्तिअ } वि [सायात्रिक] जहाज में
सजत्तिग } यात्रा करनेवाला, समुद्र माग या
मुसाफिर (सुपा ६५५, ती ६, सिदि ४६१,
पव २७६, हे १, ७०, महा, णाय १,
८—पत्र १३५) ।

सजत्थ वि [द] १ कुपित, कुट्ट । २ पु,
कोष (दे ८, १०) ।

सजद देखो संजय = ययत (आप्र, प्राइ १३,
सदि ६) ।

सजम अक [स+यम्] १ निवृत्त होना ।
२ प्रयत्न करना । ३ शन नियम करना । ४
सक, बाधना । ५ कानू में करना । इत्तं.

सरकखग नि [सरक्षक] अच्यो तरह रक्षा करनेवाला (शाया १, १८—पत्र २४०) ।
 सरकखण न [सरक्षण] समीचीन रक्षण (शाया १, १४, पि ३६१) ।
 सरकखय देवो सरकखग (उत्त २६, ३१) ।
 सरकक [स + राक्] पकाना । कृ सरद्वियञ्च (कुप्र ३७) ।
 सरकक [स + रुक्] रोकना, अटकाना । कम सरकखण्ड सरकखण्ड (हे ४ २४८) । भवि सरकखिह्द, सरकखिह्द (हे ४, २४८) ।
 सरोह पु [सरोव] अटकाव (कुप्र ५१, पत्र २३८) ।
 सरोहणी वी [सरोहणी] धाव को रोकनेवाली शोपधि-विशेष (सुपा २१७) ।
 सलकक [स + लक] पहिचानना । कर्म सलकप्रदि (शो), (नाट—वेणी ७८) ।
 सलग वि [सलग] लगा हुआ, सायुक्त (सुपा २२६) ।
 सलगिग नि [सलगितृ] सायुक्त होनेवाला, जुजनेगला (शोष ६८) ।
 सलत्त वि [सलपित] सभापित, उक्त, कथित (सुर ३, ६१, सुपा ३२६, ३८५, महा) ।
 सलत्प नीचे देखो ।
 सलय सक [स + लप] सभापण करना । सलयद, सलयमि (महा, पत्र १४८) । वक सलयमाण (शाया १, १—पत्र १३, रूप) । कृ मलयप (राज) ।
 सलय पु [सलाप] सभापण, वार्तालाप (सुप्रनि ७८) ।
 सलय मरु [स + लापग] वातचोत रत्ना । मत्तानिति (रूप) ।
 संलय गग सलय = सलाप (श्रीप, से २, ३६, गड आ ६) ।
 सलापिअ नि [सलापित] १ उक्त, कथित । २ उल्लगया हुआ (गा १११) ।
 मलिट्ट नि [मलिट्ट] सकुक्त (सवोय १६) ।
 सलिट्ट मरु [स + लिय] १ निलेप करना । २ शरीर आदि का शोपण करना, ट्ठा करना । ३ चिसना । ४ रत्ना करना । उनिह्दम (प्राता २, ३, २, ३) । नलिह्द (उत्त ३६, २४६, दत्त ८, ७, ७) । कृ मलिट्ट (रत्न) ।

सलिहिय वि [सलिखित] जिसने तपश्चर्या से शरीर आदि का शोपण किया हो वह (स १३०) ।
 सलीढ वि [सलीढ] सलेखना-युक्त (एदि २०६) ।
 सलीण नि [सलीण] जिसने इन्द्रिय तथा कषाय आदि को कावू में किया हो वह, सवृत (पत्र ६) ।
 सलीणया वी [सलीणता] तप विशेष, शरीर आदि का समोपन (सम ११, नव २८, पत्र ६) ।
 सलुव सक [स + लुक्] काटना । कवक सलुचमाणा सुणएहिं (आचा १, ६, ३, ६) । कृ. सलुचिआ (दस ५, २, १४) ।
 सलेहणा वी [सलेखना] शरीर, कषाय आदि का शोपण, अनशन-व्रत से शरीर-त्याग का अनुष्ठान (सह ११६, सुपा ६४८) । सुअ न [श्रुत] ग्रन्थ-विशेष (एदि २०२) ।
 सलेहा वी [सलेखा] ऊपर देखो (उत्त ३६, २५०, सुपा ६४८) ।
 सलोअ पु [सलोक] १ दर्शन, अवलोकन (आचा २, १, ६, २, उत्त २४, १६, पत्र ६१) । २ दृष्टि पात, दृष्टिप्रचार । ३ जगत, सपूर्ण लोक । ४ प्रकाश (राज) । ५ वि दृष्टि-प्रचारगला, जिस पर दृष्टि पड सकती हो वह (उत्त २४, १६) ।
 सलोक सक [स + लोक] देखना । कृ सलोकणिज्ज (सुप्र १, ४, १, ३०) ।
 सवइयर पु [सव्यतिकर] व्यतिसवन्ध, विपरीत प्रसंग (उव) ।
 सवग्ग पु [सवर्ग] १ गुणन, गुणाकार (वव १, जवस १५४) । २ गुणित, जिसका गुणाकार किया गया हो वह (राज) ।
 सवन्द्धर पु [सवत्सर] वर्ष, साल (उव, हे २, २१) । पडिल्लेहणग न [प्रतिलेखनक] वष-गाँठ, वर्ष की पूर्णता के दिन किया जाता उत्सन (शाया १, ८—पत्र १३१, नग, अत्र) ।
 सवन्द्धरिय पु [मावत्तरिक] १ ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र का विद्वान् (स ४७, कुप्र ३२) । २ वि. सवत्तर सवधी, वार्षिक (वमनि १२६, पटि) ।

सवच्छल देखो सवच्छर (हे २, २१) ।
 सवट्ट सक [स + वर्तय] १ एक स्थान में रखना । २ सकुचित करना । सवट्टेइ (श्रीप) । सवट्टेज्जा (आचा १, ८, ६, ३) । कृ. सवट्टेत्ता (ठा २, ४—पत्र ८६), सवट्टेत्ता (आचा १, ८, ६, ३) ।
 सवट्ट पु [सवर्त] १ पीडा (उप २६६) । २ भय-भीत लोगो का समवाय—समूह (उत्त ३०, १७) । ३ वायु-विशेष, वृण को उडानेवाला वायु (परण १—पत्र २६) । ४ अपवर्तन (ठा २, ३—पत्र ६७) । ५ वेरा । ६ जहाँ पर बहुत गाँवों के लोग एकत्रित हो कर रहे वह स्थान, दुर्ग आदि (राज) । देखो सवत्त ।
 सवट्टेइअ वि [सवर्तकित] तूफान में फँसा हुआ (उप पृ १४३) ।
 सवट्टेग पुं [सवर्तक] वायु-विशेष (सुपा ४१) । देखो सवट्टेय ।
 सवट्टेण न [सवर्तन] १ जहाँ पर अनेक मार्ग मिलते हो वह स्थान (शाया १, २—पत्र ७६) । २ अपवर्तन (विसे २०४५) ।
 सवट्टेय पु [सवर्तक] अपवर्तन (ठा २, ३—पत्र ६७) । देखो सवट्टेग ।
 सवट्टेअ वि [दे संवर्तित] सवृत, सकुचित (दे ८, १२) ।
 सवट्टेअ वि [सवर्तित] १ पिंडीभूत, एकत्रित (वव १) । २ सवर्त-युक्त (हे २, ३०) ।
 सवड्ड अक [स + वृक्] बढना । सवड्डइ (महा) ।
 सवड्डग देखो सवड्डण (अभि ४१) ।
 सवड्डिअ वि [सवृद्ध] बढा हुआ (महा) ।
 सवड्डिअ वि [संवर्धित] बढाया हुआ (नाट—रत्ना २२) ।
 सवत्त पु [सवर्त] १ प्रलय काल (से ५, ७१, १०, २२) । २ वायु-विशेष, 'जुगत-सरिस सवत्तवाय विउम्बिऊण' (कुप्र ६६) । ३ मेघ । ४ मेघ का अधिपति विशेष । ५ वृक्ष-विशेष, वहेडा का पेड़ । ६ एक स्मृतिकार पुनि (सलि १०) । देखो सवट्टे = सवर्त ।
 सवत्तण देखो सवट्टेण (हे २, ३०) ।

सजोइय वि [सदृष्ट] दृष्ट, निरोक्षित (भवि)।
सजोग देखो सजोअ = संयोग (हे १,
२४५)।

सजोगि वि [सयोगिन्] सयोग-युक्त, संबन्धी
(सवोध ४६)।

सजोगेत्तु वि [सजोगित्तु] जोडनेवाला
(ठा ८—पत्र ४२६)।

सजोत्त (अप) देखो सजोअ = स + योजय्।
सक सजोत्तिवि (भवि)।

सक नोत्रे देखो (गाथा १, १—पत्र ४८)।
°च्छेयावरण वि [°च्छेदावरण] १ सन्ध्या-
विभाग का आवारक। २ पु. चन्द्र चादि
(अणु १२० टी)। °पभ पुन [°प्रभ]
शक्र के सोम-लोकपाल का विमान (भग ३,
७—पत्र १७५)।

सम्भा स्त्री [सन्ध्या] १ सांभ, साम, सायकाल
(कुमा, गजड, महा)। २ दिन और रात्रि
का सधि-काल। ३ दुगो का सधि-काल।
४ नदी-विशेष। ५ ब्रह्मा की एक पत्नी (हे
१, ३०)। ६ मध्याह्न काल, 'तिसम्भ' (महा)।
°गय न [°गत] १ जिस नक्षत्र में सूर्य
अनन्तर काल में रहनेवाला हो वह नक्षत्र।
२ सूर्य जिसमें हो उससे चौदहवां या पनरहवां
नक्षत्र। ३ जिसके उदय होने पर सूर्य उदित
हो वह नक्षत्र। ४ सूर्य के पीछे के या आगे
के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र (वव १)।
°छेयावरण देखो सम्भ-°च्छेयावरण (पत्र
२६८)। °गुराग पु [°गुराग] सांभ के
बादल का रंग (परण २—पत्र १०६)।
°वली स्त्री [°वली] एक विद्याधर-कन्या का
नाम (महा)। °विगम पु [°विगम] रात्रि,
रात (निष् १६)। °विराग पु [°विराग]
सांभ का समय (जीव ३, ४)।

सम्भाअ सक [स + ध्यै] ह्याल करना,
चिन्तन करना ध्यान करना। सम्भाअदि
(शौ) (पि ४७६, ५५८)। वङ्ग सम्भायत
(सुग ३ ६)।

सम्भाअ अक [सध्याय] सध्या की तरह
धावरण करना। सम्भायइ (गजड ६३२)।

सटक पु [सटक] अन्यय, सबन्ध (वेदइ
३६६)।

सठ वि [शठ] घूर्त, मायावी (कुमा, दे ६,
१११)।

सठ (सूषे) देखो सड (हे ४, ३२५)।

सठप देखो सठव।

सठव सक [स + स्थापय] १ रखना,
स्थापना करना। २ आश्वासन देना, उद्देग-
रहित करना, सान्त्वना करना। सठवइ,
सठवेइ (भवि, महा)। वङ्ग सठवत (गा
३६)। कवक, सठविज्जत (सुर १२, ४१)।
सक सठवेऊण (महा), सठप (उव),
सठविअ (पिंग)।

सठवण देखो सठावण (सूच १५४)।

सठाविअ वि [सस्थापित] १ रखा हुआ
(हे १, ६७, प्राप्र, कुमा)। २ आश्वासन।
३ उद्देग-रहित किया हुआ (महा)।

सठा अक [स + स्था] रहना, अवस्थान
करना, स्थिति करना। सठाइ (पि ३०६,
४८३)।

सठाण न [सस्थान] १ आकृति, आकार
(भग, श्रौप, पत्र २७६, गजड, महा, व ३)।
२ कर्म-विशेष, जिसके उदय से शरीर के शुभ
या अशुभ आकार होता है वह कर्म (सम
६७, कम्म १, २४, ४०)। ३ सनिवेश,
रचना (प्रासू ८७)।

सठाव देखो सठव। सक सठाविअ (नाट-
चैत ७५)।

सठावण न [सस्थापन] रखना, 'तिरिच्छ-
सठावण' (पत्र ३८)। देखो सथावण।

सठावणा स्त्री [सस्थापना] आश्वासन,
सान्त्वना (से ११, १२१)। देखो सथावणा।

सठाविअ देखो सठविअ (हे १, ६७, कुमा,
प्राप्र)।

सठिअ वि [सस्थित] १ रहा हुआ, सम्यक
स्थित (भग, उवा, महा, भवि)। २ न,
आकार (राय)।

सठिइ स्त्री [सस्थिति] १ व्यवस्था (मुज्ज
१, १)। २ अवस्था, दशा, स्थिति (उप
१३६ टी)।

सड पु [शण्ड, षण्ड] १ वृष, बैल, सांड,
'मत्तसडुव्व नमेइ विलसेद अ' (वा १२,
सुर १२, १८०)। २ पुन पत्र आदि का
समूह, वृक्ष आदि की निमित्तता (गाथा १,

१—वत्र १६, भग, कप्प, श्रौप, गा ८, नुर
३, ३०, महा, प्रासू १४५), 'नियसत्तस्सडा'
(गजड)। ३ पु नपुसक (हे १, २६०)।

सडास पुन [सदश] १ यन्त्र-विशेष, संको,
चिमटा (सूत्र १, ४, २, ११, विपा १,
६—पत्र ६८, स ६६६)। २ ऊर्ध्व-
पांश और ऊरु के बीच का भाग (आप
२०६, श्रौषमा १५५)। °तांड पु [°तुण्ड]
पक्षि-विशेष, सैंडसी की तरह मुखवाला पावा
(परह १, १—पत्र १४)।

सडिक्क } न [दे] बालको का क्रोडा त्याग
सडिक्क } (राज, दस ५, १, १२)।

सडिड पु [शाण्डिल्य] १ देश विशेष (ग
१—३१ टी, सत्त ६७ टी)। २ एक वैद
मुनि का नाम (कप्प, एदि ४६)। ३ एक
ब्राह्मण का नाम (महा)। देखो सडैल।

सडो स्त्री [दे] बल्गा, लगाम (दे ८, २)।

सडेय पुं [पाण्डेय] पड-पुत्र, पड, नपुसक
'कुक्कुडसडेयगामपउररा' (श्रौप, गाथा १,
१ टी—पत्र १)।

सडेल्ल न [शाण्डिल्य] १ गोन विशेष। २
पुत्री, उस गोत्र में उत्पन्न (ठा ७—पत्र
३६०)। देखो सडिड।

सडेव पु [दे] पानी में पेर रखने के लिए
रखा जाता पापाण प्रादि (श्रौप ३१)।

सडेवय (अप) देखो सडेय, गामद कुक्कुड-
सडेयाइ' (भवि)।

सडोलिअ वि [दे] अनुगत, मनुयात (द
८, १७)।

सड पु [पण्ड] नपुसक (प्राप्र, हे १, ३०,
सवोध १६)।

सडो स्त्री [दे] साडनी, कंटनी (युपा ५८०)

सडोइय वि [सडौकित] उपस्थापित (सु
३२३)।

सण वि [सज] जानकार, नाता (प्रा
१, ५, ६, १०)।

सणस्पर देखो सनकस्पर (रात्र)।

सणज्ज न [सानाचय] मन्त्र प्रादि उ सम्भ
जाता थी गीख (प्रासू ६)।
मणज्ज अक [स + नद] १ नद पार
करना, उत्तर पठना। २ उपार पार
सणज्ज (पि ३२१)।

सुर ४, २४३)। २ वहन किया हुआ (भवि)।

सविफिण्ण वि [सविफिण्ण] अच्यो तरह व्याप्त (पण २—पत्र १००)।

सविष्म सक [सवि + ईक्ष्] सम भाव में देवता, रागादि-रहित हो कर देखना। वक्क, सविकखमाण (उत्त १४, ३३)।

सविग्ग वि [सविग्ग] सवेग-युक्त, भव-भीरु मुक्ति का अभिलाषी, उत्तम साधु (उव, पचा ५ ४८, सुर ८, १६६, शोधभा ४६)।

सविचिण्ण वि [सविचिण्ण] सविचरित, सविचिन्न } आमेवित (आया १, ५ टी—पत्र १००, आया १, ५—पत्र ६६)।

सविच्च अक [स + विच्] विद्यमान होना। सविच्चइ (सूत्र १, ३, २, १८)।

सविट्ट सक [स + वेट्ट] १ वेष्टन करना, लपटना। २ पोषण करना। सक्क सविट्टेमाण (आया १, ३—पत्र ६१)।

सविट्ठत्त वि [समजित] पेदा किया हुआ, उपाजित (स ५)।

सविणीय वि [सविनीय] विनय-युक्त (शोधभा १३८)।

सपित्त देखो सवीत्त (सूत्र १, ३, १, १७)।

सपित्त वि [सपित्त] १ सजात, बना हुआ (सुर ६, ८६)। २ वि अच्यो आचरण-वाला। ३ तिलतुल गोल (सिदि १०६३)।

सपित्तो यो [सपित्त] सवेदन, ज्ञान (विसे १६२६, धर्मसं २६६)।

सपिद सक [स + विच्] जानना, निष्कमाणो न सपिदे (उत्त ७, २२)।

सपिद वि [सपिद] १ समुत्त (उवर १३३)। २ ग्रन्थस्त। ३ दृष्ट, 'सविद्वहे' (पचा १, ५, ३, ६)।

सपिया यो [सपिया] सविधान, रचना, वाद्य (पत्र १)।

सपियुग अक [सवि + धू] १ दूर करना। २ परित्याग करना। ३ भयगणना, विरम्कार करना। सक्क सपियुणिय, सविधुणित्ताण (पचा १, ८, ६, ५, सूत्र १, १६, ४ प्रा)।

सपिभत्त वि [सपिभत्त] वाटा हुआ, 'सपिभत्तं भत्त' (सुर १२३)।

संविभाअ पु [सविभाग] १ विभाग सविभाग } करना, बंट (आया १, २—पत्र ८६, उवा, औप)। २ आदर, सत्कार (स ३३४)।

सविभागि वि [सविभागिन्] दूसरे को दे कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, ६, दस ६, २, २३)।

सविभाव सक [सवि + भावय्] पर्या-लोचन करना, चिन्तन करना। सक्क सवि-भाविऊण (राज)।

सविराय अक [सवि + राज्] शोभना। वक्क सविरायत्त (पत्र ७, १४६)।

सविल्ल देखो सवेले। वक्क सविल्लत्त (वै ४२)। सक्क सविच्छिऊण (कुप्र ३१५)।

सविल्लिअ वि [सवेलेत्त] चालित (उवा)। सविल्लिअ देखो सवेलेत्त = सवेष्टित (कुमा)।

सविल्लिअ देखो सवेलेत्त = (दे) (उवा, ज १)। सविह पु [सविध] गोशाले का एक उपासक (भग ८, ६—पत्र ३६६)।

सविहाण न [सविधान] १ रचना, वनावट (सुपा ५८६, धर्मवि १२७, माल १५१, १६३)। २ भेद, प्रकार (वै १०)।

सवीअ वि [सवीत्त] १ व्याप्त (सूत्र १, ३, १, १६)। २ परिहित, पहना हुआ, 'सवी-यदिव्ववसणो' (धर्मवि ६)।

सवुअ देखो सवुड (हे १, १३१, सलि ४, औप)।

सवुट्ट देखो सवुत्त (रभा ४४)। सवुड वि [सवुत्त] १ सकट, सकडा, अवि-वृत्त (ठा ३, १—पत्र १२१)। २ सवर-युक्त, सावध प्रवृत्ति से रहित (सूत्र १, १, २, २६, पचा १४, ६, भग)। ३ निरुद्ध, निरोध-प्राप्त (सूत्र १, २, ३, १)। ४ आवृत्त। ५ समोपित (हे १, १७७)। ६ न. कपाय और इन्द्रियों का नियन्त्रण (पण २, ३—पत्र १२३)।

सवुट्ट वि [सवुट्ट] उठा हुआ (सूत्र २, १, २६, औप)।

सवुत्त वि [सवुत्त] सजात, बना हुआ, 'पव्वया ते सवारत्तकरा सवुत्ता' (वसु, कुप्र ४३५, किरात १७, स्वप्न १७, अग्नि ८२, उत्तर १४१, महा, सण)।

सवुत्त देखो सवुड (प्राक्क ८, १२, प्राप्र)।

संवुदि लो [सवृत्ति] सवरण (प्राक्क ८, १२)।

सवुद देखो सवुड (प्राक्क ८, १२, प्राप्र)।

सवुद वि [सव्युद] १ तय्यार बना हुआ, सजित, 'जह इह नगरनरिदो सव्वबलेणपि एइ सवुदो' (सुपा ५८५, सुर ६, १५२)। २ वह कर किनारे लगा हुआ, वह कर स्थित, 'तए एं ते मागदियदारगा तेण फलयखडेणं उवु- (व्वु)ज्जमाणा २ रयणदीवतेण सवु- (व्वु)डा यावि होत्था' (आया १, ६—पत्र १५७)।

सवेअ वि [सवेद्य] अनुभव योग्य (विसे ३००७)।

सवेअ पु [सवेग] १ भय आदि के कारण सवेग से होती त्वरा—शीघ्रता (गड्ड)। २ भव-वैराग्य, ससार से उदासोन्ता। ३ मुक्ति का अभिलाषा, मुमुक्षा (द्र ६३, सम १२६, भग, उव, सुर ८, १६५, सम्मत्त १६६, १६५, सुपा ५४१)।

सवेयण न [सवेदन] १ ज्ञान (धर्मसं ४४ कुप्र १४६)। २ वि बोध-जनक। लो. णी (ठा ४, २—पत्र २१०)।

सवेयण वि [सवेजन] सवेग-जनक। लो णी (ठा ४, २—पत्र २१०)।

सवेयण वि [सवेगन] ऊपर देखो (ठा ४, २—पत्र २१०)।

सवेले सक [स + वेल्] चालित करना, कौपाना (से ७, २६)।

सवेले सक [स + वेट्ट] लपटना। सवेलेत्त (हे ४, २२२, सलि ३६)।

सवेले सक [दे] सकेलना, समेटना, सकुचित करना। सव्वलेइ (भग १६, ६—पत्र ७१२)। वक्क सवेलेत्त, सवेलेमाण (उव, भग १६, ६)। सक्क सवेलेऊण (महा)।

सवेलेत्त वि [दे] सवृत्त, सकुचित, 'सवे-ल्लिभ मउत्तिअ' (पत्र, दे ८, १२, भग १६, ६—पत्र ७१२, राय ४५)।

सवेलेत्त वि [सवेलेत्त] चालित (से ७, २६)।

६८१) । कृ सतपिअव्व (स ६८१) ।
वक्क. सतपपमाण (सुज ६) ।

सतपिअ वि [सतप] १ सताप-युक्त (कुमा
६, १४) । २ न. सताप (स २०) ।

सतमस न [सतमस] १ अन्वकार, अँवेरा
(पात्र, सुपा २०५) । २ अन्व कूप, अँवेरा
कुँआ (सुर १०, १५८) ।

सतय देखो सतत्त = सतत (पात्र, भग) ।

सतर सक [स + तृ] तैरना, तैर कर पार
करना । हेक सतरिअए (कस) ।

सतरण न [सतरण] तेरना, तेर कर पार
करना (श्रोध ३८, चेइय ७४३, कुप्र २२०) ।

सतस अक [स + त्रस] १ भय-भीत
होना । २ उद्विग्न होना । सतसे (उत्त २,
११) ।

सता स्त्री [शान्ता] सातवें जिन-भगवान् की
शासन-देवता (सति ६) ।

संताण पु [सतान] १ वश (कप्प) । २
अविच्छिन्न धारा, प्रवाह (विसे २३६७,
२३६८, गडड, सुपा १६८) । ३ तनु-जाल,
मकडो आदि का जाल, 'मक्खडासताणए'
(आचा, पडि, कस) ।

सताण न [सत्राण] परित्राण, सरक्षण
(वृह १) ।

सताणि वि [सतानिन्] १ अविच्छिन्न धारा
मे उत्पन्न, प्रवाह वर्ती, 'सताणियो न भिरणो
जइ सताणो न नाम सताणो' (विसे २३६८,
धर्मस २३५) । २ वश मे उत्पन्न, परंपरा
में उत्पन्न, 'देव इह अत्थि पत्तो उजाणे
पासनाहसताणी । क्सेसी नाम गणहरो'
(धर्मवि ३) ।

सतार वि [सतार] १ तारनेवाला, पार
उतारनेवाला (पउम २, ४४) । २ पु
सतरण, तेरना (पिग) ।

सतारिअ वि [सतारित] पार उतारा हुआ
(पिग) ।

सतारिम वि [सतारिम] तेरने योग्य (आचा
२, ३, १, १३) ।

सताव सक [स + तापय] १ गरम
करना तपाना । २ हेरान करना । सतावेंति

(सुज ६) । वक्क सतावित (सुपा २४८) ।

कवक्क सताविज्जमाण (नाट—मूच्छ १३७) ।

सताव पु [सताव] १ मन का खेद (परह
१, ३—पत्र ५५, कुमा, महा) । २ ताप,
गरमी (परह १, ३—पत्र ५५, महा) ।

सतावण न [सतापण] सताप, सतस करना
(सुपा २३२) ।

संतावणी स्त्री [सतापनी] नरक-कुम्भी (सूअ
१, ५, २, ६) ।

सतावय वि [सतापय] सताप-जनक (भवि) ।
सतावि वि [सतापिन्] सतस होनेवाला,
जलनेवाला (कप्प) ।

सताचिय वि [सतापित] सतस किया हुआ
(काल) ।

सतास सक [स + त्रासय] भय-भीत
करना, डराना । सतासइ (पिग) ।

सतास पु [सत्रास] भय, डर (स ५४४) ।

सतासि वि [सत्रासिन्] त्रास-जनक (उप
७६८ टी) ।

सति स्त्री [शान्ति] १ क्रोध आदि का जय,
उपशम, प्रशम (आचा १, १, ७, १, चेइय
५६४) । २ युक्ति, मोक्ष (आचा १, २, ४,
४, सूअ १, १०, १, ठा ८—पत्र ४२५) ।

३ अहिंसा (आचा १, ६, ५, ३) । ४
उपद्रव-निवारण (विपा १, ६—पत्र ६१,
सुपा ३६४) । ५ विषयोसे मन को रोकना ।

६ चैन, आराम । ७ स्थिरता (उप ७२८ टी,
सति १) । ८ दाहोपशम, ठढाई (सूअ १,
३, ४, २०) । ९ देवी-विशेष (पचा १६,
२४) । १० पु सोलहवें जिनदेव का नाम

(सम ४३, कप्प, पडि) । उदअन [उदक]
शान्ति के लिए मस्तक मे दिया जाता

मन्त्रित पानो (पि १६२) । कम्म न
[कर्मन्] उपद्रव-निवारण के लिए किया

जाता होम आदि कर्म (परह १, २—पत्र
३०, सुपा २६२) । कम्मत न [कर्मन्ति]
जहाँ शान्ति कर्म किया जाता हो वह स्थान

(आचा २, २, २, ६) । गिह न [गृह]
शान्ति कर्म करने का स्थान (कप्प) । जल
न [जल] लो उदअ (धर्म २) । जिण
पु [जिन्] सोलहवें जिन-देव (सति १) ।

भइ स्त्री [मती] एक आधिजा का नाम

(सुपा ६२२) । य वि [य] शान्ति प्रदाता
(उप ७२८ टी) । सूरि पु [सुरि] एक

जैनाचार्य और ग्रन्थकार (जी ५०) । सेणिय
पु [श्रेणि] एक प्राचीन जैन भुवि (कप्प) ।

हर न [गृह] भगवान् शान्तिनाथजी का
मन्दिर (पउम ६७, ५) । होम पु [होम]
शान्ति के लिए किया जाता हवन (विपा १,
५—पत्र ६१) ।

सतिअ } वि [दे सत्त] सबन्धी, सबन्ध
सतिग } रखनेवाला, अम्मा पिउअदि

वद्धमाणे (कप्प), नो कप्पइ निग्गयाण वा
निग्गयाण वा सागारियसतिय सेज्जासयात्तं

आयाए अहिगरण कट्टु संपव्वइत्तए (वत्त,
उव, महा, स २०६, सुपा २७८, ३२३,
परह १, ३—पत्र ४२) ।

सतिज्जाघर देखो सति गिह (महा ६८, ८) ।

सतिण वि [सतीण] पार-प्राप्त, पार उतार
हुआ, 'सतिणए सब्बअथा' (अजि १२) ।

सतुट्ट वि [सतुट्ट] सतोप प्राप्त (स्वप्न १०,
महा) ।

सतुयट्ट वि [सत्वगुत्त] जिसने पार
धुमाया हो वह, जिसने करवट बदली हो वह,

लेटा हुआ (खाया १, १३—पत्र १७६) ।
सतुलणा स्त्री [सतुलना] तुलना, तुलना,

सरोबाई (साध २०) ।
सतुस्स अक [स + तुप्] १ प्रसन्न होना ।

२ तुप्त होना । सतुस्सइ (सिदि ८-२) ।
सतेज्जाघर देखो सतिज्जाघर (महा ६६,
१४) ।

सतो अ [अन्तर] मध्य, बीच, 'अदा सदा
च मध्यायें' (प्राकृ ७६) ।

सतोस सक [स + तोपय] १ प्रसन्न
करना, खुशी करना । २ तुप्त करना । धर्म

सतोसीअदि (शी) (नाट—रत्ना ४०) ।
सतोस पु [सतोप] सुप्ति, तोम का धनार,

'हरइ अणूवि परउणो गन्धम्मिनि जिण्णो
न सतावी' (गडड: कुमा, परह १, ५—
पत्र ६३, प्राम् १७७, सुपा १३६) ।

सतोसि स्त्री [सतोपि] मन्ताप, सुप्ति, सुप्ति
(उपा) ।

सतोमि नि [सतोपिन्] १ मन्ताप
लोम-रहित, निर्लोम, तुप्त (सूअ १, ३)

समुद्र वि [सशुद्र] १ विशुद्ध, निर्मल (मुपा ५७३)। २ न लगातार उन्नीस दिन का उपवास (सवोध ५८)।

ससृगग वि [ससृकर] सूचना-कर्ता (रभा)।

ससेइम वि [ससेकिम] ससेक से बना हुआ (नित्र १५)। २ जवाली हुई भाजी जिस ठंडे जल में सिंचो जाय वह पानी (ठा ३, ३—पत्र १४७, कम्प)। ३ तिल की धोवन (भाचा २, १, ७, ८। ४ पिष्टोदक, आटा की धोवन (दस ५ १, ७५)।

ससेइम वि [सस्वेदिम] १ पसीने से उत्पन्न होनेवाला (परह १, ४—पत्र ८५)।

ससेय ग्रह [स + स्विट्] बरसना, 'जाव च ए वहेने उराला बलाहया ससेयति' (भग)।

ससेय पु [सस्वेद] पसीना। 'य वि [°ज] पसीने से उत्पन्न (सूत्र १, ७, १, आचा)।

ससेय पु [समेक] सिंचन (ठा ३, ३)।

ससेविय वि [ससेवित] आसेवित (मुपा २२७)।

ससेम पु [सश्ले] सम्बन्ध, सयोग (भाचा २, १३, १)।

ससेसिय वि [सश्लेपिक] सश्लेपवाला (भाचा २, १३ ?)।

ससोधन न [सगोवन] शुद्धि-करण (पिंड ४५६)। दमो ससोहण।

ससोधित वि [सगोधित] अन्धो तरह शुद्ध किया हुआ (सूत्र १, १४, १८)।

ससोत्र सक [स + गोचय्] शोक करना। कृ समोत्रणिज्ज (सुर १८, १८१)।

ससोठण न [सगोधन] विरेचन, जुलाव (भाचा १, ६, ८, २)। देवो ससोधण।

ससोहा श्री [सशोभा] शोभा, श्री (मुपा ३७)।

ससोहा वि [सगोभिन्] शोभनेवाला (मुपा ८८)।

ससोहिय देवो ससोहित (राज)।

ससोहा सत्र (नाट—पिक २५)।

ससोहा श्या सत्रण (चड)।

ससोहा श्री [ससोहित] उंगर (सजि ६)।

ससोहा वि [ससो] मित्रा हुआ (परह १, १—पत्र ७८)।

सहर सक [स + ह] १ अपहरण करना।

२ विनाश करना। ३ सवरण करना, सकेलना, समेटना। ४ ले जाना। सहरइ (पव २६१, हे १, ३०, ४, २५६)। कवक सहरिज्जमाण (णाया १, १—पत्र ३७)।

सहर पु [सभार] समुदाय, सघात, 'सघाओ सहरो निग्रो' (पात्र)।

सहरण न [सहरण] सहार (श्रु ८७)।

सहार देखो सभार = स + भारय्। कृ.

सहारणिज्ज (णाया १, १२—पत्र १७६)।

सहार देखो सघार (हे १, २६४, पड्)।

सहारग न [सघारग] धारण, बनाये रखना, ठिकाना, 'कायसहारणदठाए' (आचा)।

सहाव देखो सभाव = स + भावय्। वक्र. सटावअव (शौ) (पि २७५)।

सहिदि देखो सहदि (प्राक १२)।

सहिश्च ग्र [सहृत्य] साथ में मिलकर, एकत्रित होकर (णाया १, ३ टी—पत्र ६३)।

सहिय देखो सधिअ = सहित (कम्प, नाट—महावी २६)।

सहिया श्री [सहिता] १ चिकित्सा आदि शास्त्र, 'चिगिच्छासहियाओ' (स १७)। २ अस्खलित रूप से सून का उच्चारण, 'अकखलियसुत्तुच्चारणरुवा इह सहिया मुण्णेषवा' (वेइय २७२)।

सहुदि श्री [सभृति] अन्धो तरह पोपण (सलि ४)।

सक देखो सग = शक (परह १, १—पत्र १४)।

सकण देखो सकन्न (राज)।

सकथ न [सकथ] तापतो का एक उपकरण (निर ३, १)।

सकथा देखो सकहा, चेइयल्लमेसु जिणसकथा सणिन्निता चिट्ठति' (सुज्ज १८)।

सकथ ग्र [सकन्] एक वार, 'कि सक (१ क)य बोलीए' (सुर १६, ४५)।

सकथ वि [सकर्ण] विद्वान्, जानकार (सुर ८, १४६, १२, ५८)।

सकथ देवो सकथल = सकन (परह १, ४—पत्र ७८)।

सकहा श्री [सक्थियन्] अस्तिय, हाड (सम ६३, मुपा ६५७, राय ८६)।

सकाम देखो स-काम = सकाम।

सकुत पुं [शकुन्त] पक्षी (कुप्र ६८, अणु १४१)।

सकुण देखो सक = शक्। सकुणोमो (स ७६५)।

सकिय देखो स-किय = सकेत।

सक ग्रह [शक्] सकना, समर्थ होना।

सकइ मकए (हे ४, २३०, प्राप्र, महा)। भवि सकख, सकखामो, सकिल्लामो (आचा, पि ५३१)। कृ मक, सकणिज्ज, सकिअ (सलि ६, सुर १, १३०, ४, २२७, स ११४, सवोध ४०, सुर १०, ८१)।

सक सक [सुप्] जाना, गति करना। सकइ (प्राक ६५, घाटा १५५)।

सक सक [सुप्] गति करना, जाना। सकइ (पि ३०२)।

सक न [शक्त] छाल (दे ३, ३४)।

सक वि [शक्त] समर्थ, शक्ति-युक्त, 'को सको वेयणाविगमे' (विदे १०२, हे २, २)।

सक देखो सक = शक्।

सक पु [शक्र] १ सौवर्ग नामक प्रथम देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५, उवा, मुपा २६६)। २ कोई भी इन्द्र, देव-पति (कुमा)। ३ एक विद्याधरराजा (पउम १२, ८२)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। ५ गुरु पु [गुरु] बृहस्पति (सिरि ४४)। ६ प्रभ पु [प्रभ] शक्र का एक उत्पात-पर्वत (ठा १०—पत्र ४८२)। ७ सार न [सार] एक विद्याधर-नगर (इक)। ८ विदार (शौ) न [वतार] तीर्थ-विशेष (अभि १८६)। ९ वियार न [वतार] चैत्य-विशेष (स ४७७, द ६१)।

सक पु [शाक्य] १ बुद्ध देव (पात्र)। २ वि बुद्ध, बुद्ध का भक्त (विमे २४१६, थावक ८८, पव ६४, पिंड ४४५)।

सक (अप) देखो सग = स्वक (भवि)।

सकदण पु [सकन्दन] इन्द्र (सुर १, ६ टि, ४, १६०)।

भवि) । २ जिसको श्राप्ता दी गई हो वह, 'हरिणोमेसिणा सवकवयणसदिट्ठेण' (कप्प) ।
 ३ छंटा हुआ, छिनका निकाला हुआ (चावल आदि) (राय ६७) ।
 सदिद्ध वि [स दग्ध] सशय युवत, सदेह-वाला (पात्र) ।
 सदिन्न न [सदन्त] उनतीस दिनों का लगातार उपवास (सबोध ५८) ।
 सदिय वि [स्यन्दित] क्षरित टपका हुआ (सुर २, ७६) ।
 सदिरे वि [स्यन्दित] झरनेवाला (सण) ।
 सदिस सक [स+दिश] १ सदिशा देना, समाचार पहुँचाना । २ श्राप्ता देना । ३ अनुज्ञा देना, सम्मति देना । ४ दान के लिए सकल्प करना । सदिसइ (पड्, महा), सदिसह (पडि) । कवक सदिस्सत (पिड २३६) । प्रयो, सक्क, सदिसाविज्जण (पचा ५, ३८) ।
 सदिसण न [सदेसन] उपदेश, कथन, 'कुलनी-इट्ठिइमगप्पमुहाणोमग्नोससदिसण' (सबोध १५) ।
 सदीण पुं [सदीन] १ द्वीप-विशेष, पक्ष या मांस आदि में पानी से सराबोर होता द्वीप । २ अल्पकाल तक रहनेवाला दीपक । ३ श्रुतज्ञान । ४ क्षोभ्य, क्षोभणीय (आचा १, ६, ३, ३) ।
 सदीवण वि [सदीपक] उत्तेजक, उद्दीपक, 'कामग्गिसदीवण' (रभा) ।
 सदीवण न [सदीपन] १ उत्तेजना, उद्दीपन (सबोध ४८, नाट—उत्तर ५६) । २ वि. उत्तेजन का कारण, उद्दीपन करनेवाला (उत्तम ८८) ।
 सदीविय वि [सदीपित] उत्तेजित, उद्दीपित (भवि) ।
 सदुक्ख अक [प्र + दीप्] जलना, सुलगना । संदुक्खइ (पड्) ।
 सदुट्ठ वि [सदुट्ठ] अतिशय दुष्ट (सबोध ११) ।
 सदुम अक [प्र + दीप्] जलना, सुलगना । सदुमइ (इ ४, १५२, कुमा) ।
 सदुमिअ वि [प्रदीप्त] जला हुआ, सुलगा हुआ (पात्र) ।

सदेव पु [दे] १ सीमा, मर्यादा । २ नदी-मेलक, नदी-सगम (दे ८, ७) ।
 सदेस पु [सदेश] सदिशा, समाचार (गा ३४२, ८३३, हे ४, ४३४, सुपा ३०१, ५१६) ।
 सदेह पु [सदेह] सशय, शका (स्वप्न ६६, गउड, महा) ।
 सदेह पु [सदेह] समूह, जल्ला (पात्र, सुर २, १४६, सिरे ५६४) ।
 सध सक [स + धा] १ साँधना, जोड़ना । २ अनुसधान करना, खोज करना । ३ वाँछना, चाहना । ४ वृद्धि करना, बढ़ाना । ५ करना, 'भग व सधइ रह सो' (कुप्र १०२), सवइ, सवए (आचा, सूत्र १, १४ २१, १, ११, ३४, ३५) । भवि सधिसवामि, सधिसि (पि ५३०) । वक्क सधत (से ५, २४) । कवक सधिसमाण (भग) । हेक्क सधिस (कुप्र ३८१) ।
 सध° देखो सक्क° (देवेन्द्र २७०) ।
 सधण स्त्री [सधान] १ साँधा, सधि, जोड़ (धर्मस १०१७) । २ अनुसधान (पचा १२, ४३) । स्त्री. °णा (आचानि १७५, सूत्रनि १६७, श्लो ७२७) ।
 सधणया स्त्री [सधना] साँधना, जोड़ना (वव १) ।
 सधय वि [सधक] सधान कर्ता (दस ६, ४, ५) ।
 सधया देखो सव = स + धा । सधयाती (सूत्र २, ६, २) ।
 सधा स्त्री [सधा] प्रतिज्ञा, नियम (आ १२, उप पृ ३३३, सम्मत १७१) ।
 सधाण न [सधान] १ दो हाडों का संयोग-स्थान (सुर १२, ६) । २ सधि, सुलह (हम्मोर १५) । ३ मय, सुरा, दाह (धर्मस ५६) । ४ जोड़, संयोग, मिलान (आचा, कुमा, भवि) । ५ अचार, नोट आदि का मसाला दिया पाद्य-विशेष (पच ४) ।
 सधारण न [सधारण] सान्त्वना, आश्वासन (स ४१६) ।
 सधारिअ वि [दे] योग्य, लायक (दे ८, १) ।
 सधारिअ वि [सधारिअ] रत्ना हुआ, स्थापित (आया १, १—पत्र ६६) ।

सधाव सक [स + धाव] दौड़ना । सकव (उत्त २०, ४६) ।
 सधि पुत्री [सधि] १ छिद्र, निवर । २ सधान, उत्तरोत्तर पदार्थ-परिज्ञान (सुपा, १, १, २०, २१, २२, २३, २५) । ३ व्याकरण-प्रसिद्ध दो शक्तियों के संयोग सत्त्व वाला वर्ण-विकार (पणह २, २—३२११) । ४ संध, चोरी के लिए भीत में किया जला छेद (आह ६०, महा, हास्य ११०) । ५ दो हाडों का संयोग स्थान, 'धक्काम्मा उभ सधीओ' (सुर ४, १६५, १२, १६६, १२) । ६ मत, अभिप्राय, 'अहवा विरित सधियो हि पुरिसा हवति' (स २६) । ७ कर्म, कर्म-सतति (आचा, उभ १, १, ६, २०) । ८ सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति । ९ चरित मोहनीय कर्म का क्षयोपशम । १० अत्यंत समय, प्रसंग । ११ मीलन, संयोग (आचा) । १२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान (विपा १, ३—पत्र ३६, महा) । १३ मेल के वि. कतिपय नियमों पर भिन्नता-स्थान, सुभ (कप्प, कुमा ६, ४०) । १४ अथ का प्रारंभ अर्थात्, परिच्छेद (भवि) । 'गिह न °गइ दो भीतो के बीच का प्रच्छन्न स्थान (कप्प) °च्छेयग, °च्छेयग वि [°च्छेदक] में लगा कर चोरी करनेवाला (आया १ १८—पत्र २३६, विपा १, ३—पत्र ३६) °पाल, °वाल वि [°पाल] दो रज्यों व सुलह का रसक (कप्प, श्रोप, आया १, १ पत्र १६) ।
 सधिअ वि [दे] दुर्गन्धि, दुर्गन्धवाला (८, ८) ।
 सधिअ वि [सहित] साधा हुआ, जाड़ा (से १, ५४, गा ५३, स २६०, वड् ५ वजा ७०) ।
 सधिअ वि [सहित] प्रगाथि (पउ३) ।
 सधिआ देखो सधिना (श्लो ६२) ।
 सधिउ देखो सव = स + धा ।
 सधित देखा सधिय = सधित (भग) ।
 सधिविगहिन पु [सान्धिविगहिन] सध की सधि धार लडाई के समय में निरुद्ध (कुमा) ।

सहृ पुत्री [दे] १ सहा, विनिमय, बदला (सुपा २३३)। स्त्री १ ट्टी (सुपा २७५, वज्रा १४२)। २ वि. सदा हुआ, पीणुरणाय-सहृइ थणवहृइ (भवि)।

सहृ पुन [सहृक] १ एक तरह का नाटक सहृय (कप्प, रभा १०), 'रभ त परिणेदि अट्टमतिथ एयम्मि सहृ वरे' (रभा १०)। २ खाद्य-विशेष (रभा ३३)।

सहृ न [शाठ्य] शठता, वृत्तता (उप ७२८ टी, गुभा २४)।

सहृ (शौ) देखो छट्ट (चार ७, प्रबो ७३, पि ४४६)।

सहृि स्त्री [पष्टि] १ सख्या-विशेष, साठ, ६०। २ साठ सख्यावाला (सम ७४, कप्प, महा, पि ४४८)। ३ तत, ०त्त न [०त्त्र] शास्त्र-विशेष, साख्य-शास्त्र (भग, णाया १, ५—पत्र १०५, औप, अणु ३६)। ४ म वि [०त्तम] साठवाँ (पउम ६०, १०)।

सहृिक्क वि [पष्टिक] १ साठ वर्ष की सहृिय वयवाला (तदु १७, राज)। २ सहृिअ पुन एक प्रकार का चावल (राज, आ १८)।

सहृिअक [सहृ] १ सडना। २ विषाद करना, खिन्न होना। ३ सक गति करना, जाना। सहृिइ (हे ४, २१६, प्राप्र, षड्, घात्वा १५५)।

सहृिअक [शहृ] १ सडना। २ खेद करना। ३ रोगी होना। ४ सक जाना। सहृिइ (विपा १, १—पत्र १६)।

सहृिअन [पडङ्ग] शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष। ०वि वि [०विट्] छ अगो का जानकार (भग, औप, पि ३४१)।

सहृिअन [शहृटन] विशरण, सडना (पहृ १, १—पत्र २३, णाया १, १—पत्र ४८)।

सहृिअ देखो सडा (से १, ५०, पि २०७)।

सहृिअ वि [सन्न, शटित] सडा हुआ, विशीर्ण (विपा १, ७—पत्र ७३, आ १४, कुमा)।

सहृिअग्गिअ वि [दे] १ ववित्त, बढाया हुआ। २ प्रेरित (पड्)।

सहृिअक [शहृ] १ विनाश करना। २ कृश करना। सहृिइ (घात्वा १५५)।

सहृिअक पुत्री [आहृ] १ श्रावक, जैन गृहस्थ (श्रोष ६३, मंहा)। स्त्री १ ड्डी (सुपा ६५४)। २ वि. श्रद्धेय वचनवाला, जिसका वचन श्रद्धेय हो वह (ठा ३, ३—पत्र १३६)। देखो सहृिअ = श्राद्ध।

सहृिअ देखो सहृिअ = साधं।

सहृिअइ पु [आहृअन्] वानप्रस्थ तापस की एक जाति (औप)।

सहृिअ स्त्री [अहृ] १ स्पृहा, अभिलाष, वाछा (विपा १, १—पत्र २)। २ धर्म आदि में विश्वास, प्रतीति। ३ आदर, सम्मान। ४ शुद्धि। ५ चित्त की प्रवृत्ता (हे १, ४१, षड्)। देखो सहृिअ।

सहृिअ वि [अहृअन्] १ श्राद्धाल, श्राद्धावान् (ठा ६—पत्र ३५२, उत ५, ३१, पिडभा ३३)। २ पु श्रावक, जैन गृहस्थ (कप्प)।

सहृिअअ वि [आहृअक] देखो सहृिअ = श्राद्ध (पि ३३३, राज)।

सहृिअदी देखो सहृिअ = श्राद्ध।

सहृिअ वि [शहृ] १ धूर्त, मायावी, कपटी (कुमा, उप २६४ टी, श्रोषभा ५८, भग, कम्म १, ५८)। २ कुटिल, वक्र (पिड ६३३)। ३ पु. घत्तूरा। ४ मध्यस्थ पुरुष (हे १, १६६, सक्षि ८)।

सहृिअ पु [दे] १ पाल, जहाज का बादवान, गुजराती में 'सहृ' (सिरि ३८७)। २ केश, बाल (दे ८, ४६)। ३ स्तम्भ, गुच्छा (दे ८, ४६, प्राप्र)। ४ वि विषम (दे ८, ४६)।

सहृिअ न [दे] कुसुम, फूल (दे ८, ३)।

सहृिअ स्त्री [सहृ] १ सिंह आदि की केशरा। २ जटा। ३ ब्रती का केश-समूह। ४ शिखा (हे १, १६६)।

सहृिअल पु [सहृल] सहृिअवाला, सिंह (कुमा)।

सहृिअ पु [दे सहृिअन्] सिंह (दे ८, १)।

सहृिअल वि [शिथिल] ढीला (हे १, ८६, कुमा)।

सहृिअ पुन [शहृण] १ धान्य-विशेष (आ १८, पत्र १५४, पहृ २, ५—पत्र १४८)। २ तृण-विशेष, पाट, जिसके ततु रस्सी आदि

वनाने के काम में लाए जाते हैं (णाया १, १—पत्र २४, परण १—पत्र ३२, कप्प)। ०वधण न [०वन्धन] सन का पुष्प-वृन्त (औप, णाया १, १ टी—पत्र ६)। ०वाडिआ स्त्री [०वाटिका] सन का बगीचा (गा ६)।

सहृिअ पु [स्वन्] शब्द, आवाज (स ३७२)।

सहृिअकुमार पुं [सनत्कुमार] १ एक चक्रवर्ती राजा (सम १५२)। २ तीसरा देवलोक (अनु, औप)। ३ तीसरे देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५)। ०वडिसय पुन [०वतसक] एक देव-विमान (सम १३)।

सहृिअपय } देखो सहृिअपय = सहृिअपद।
सहृिअपद }
सहृिअपय }

सहृिअ अ [सना] सदा, हमेशा। ०तण, ०यण वि [०तन] सदा रहनेवाला, नित्य, शाश्वत (सुअ २, ६, ४७), 'सिद्धाण सणायणओ परिणामिओ व्वञ्जो वि गुणो' (सबोध २)।

सहृिअण न [स्नान] नहाना, नहान, अवगाहन (उवा)।

सहृिअइ देखो सहृिअइ = सहृिअय।

सहृिअहि पु [सनाभि] १ स्वजन, जाति, 'बधु समणो सणहि य' (पाम्म)। २ समान, सहृिअ (रभा)।

सहृिअ पु [शानि] १ ग्रह-विशेष, शनैश्वर (पउम १७ ८१)। २ शनिवार (सुपा ५३२)।

सहृिअ पु [दे] १ साक्षी, गवाह। २ ग्राम्य, ग्रामोण (दे ८, ४७)।

सहृिअ अ [शनैस्] धीरे, हौले (णाया १, १६—पत्र २२६, गा १०३, हे २, १६८ गउड, कुमा)।

सहृिअचर पुं [शनैश्वर] ग्रह-विशेष, शनि-ग्रह (पि ८४)। ०सवच्छर पुं [०सवत्सर] वर्ष-विशेष (ठा ५, ३—पत्र ३४४)।

सहृिअचरि } पु [शनैश्वरिन्] युगलिक
सहृिअचारि } मनुष्यों की एक जाति (इक, भग ६, ७—पत्र २७६)।

सहृिअचर } देखो सहृिअचर (ठा २, ३—
सहृिअच्छर } पत्र ७७, हे १, १४६, औप, कुमा, सुज १०, २०, २०)।

सनिवेश पुं [सनिवेश] १ नगर के बाहर का प्रदेश, जहाँ आभीर बगैरह लोग रहते हो । २ गाव, नगर आदि स्थान (भग १, १—पत्र ३६) । ३ यात्री आदि का डेरा, मार्ग का वास-स्थान, पडाव (उत्त ३०, १७) । ४ ग्राम, गाँव (विरि ३८) । ५ रचना (उप पृ १४२) ।

सनिवेशणया स्त्री [सनिवेशणा] सस्थापन (उत्त २६, १) ।

सनिवेशिन् वि [सनिवेशिन्] रचनावाला, (उप पृ १४२) ।

सनिषन्न वि [सनिषण्ण] बैठा हुआ, सम्यक् स्थित (शाया १, १—पत्र १६, कुप्र १६६, ध्रु १२, सण) ।

सनिषिञ्जा स्त्री [सनिषिञ्जा] आसन-सनिषेजा } विशेष, पीठ आदि आसन (सम २१, उत्त १६, ३, उव) ।

सनिह वि [सनिभ] समान, सदृश (प्राप् ६६, सण) ।

सनिहाण न [सनिधान] १ ज्ञानावरणीय आदि कर्म (आचा) । २ कारक विशेष, अधिकरण कारक, आचार (विसे २०६६, ठा ८—पत्र ४२७) । ३ साक्षि, निकटता (स ७१८, ७६१) । ४ सत्य न [शास्त्र] समय, त्याग (आचा) । ५ सत्य न [शास्त्र] कर्म का स्वरूप बतानेवाला शास्त्र (आचा) ।

सनिहि पुं स्त्री [सनिधि] १ उपभोग के लिए स्थापित वस्तु (आचा १, २, १, ४) । २ सस्थापन । ३ सुन्दर निधि (आचा १, २, ५, १) । ४ समीपता, निकटता (उप पृ १८६, स ६८०, कुप्र १३०) । ५ सचय, सग्रह (उत्त ६, १५, दस ३, ६, ८, २४) ।

सनिहिअ पु [सनिहित] अणुपण्णि देवो के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । देखो सणिहिअ (शाया १, १ टी—पत्र ४) ।

सनेउम् देखो सनिउम्, 'उवगारि ति करेइ कुमरस्स सनेउज(उ उम्)' (कुप्र २५, वेइय ७८३) ।

सपअ } (अप) देखो सपया (पिग, पि ४१३, सपइ } है ४, ३३५, कुमा) ।

सपइ अ [सप्रति] १ इस समय, अधुना, अब (पाअ, महा, जी ५०, द ४६, कुमा) । २ पुं, एक प्रसिद्ध जैन राजा, सम्राट् अशोक का पोत्र (कुप्र २, धर्मवि ३७, पुष्क २६०) । ३ काळ पु [काळ] वर्तमान काल (सुपा ४४६) । ४ कालीण वि [कालीण] वर्तमान-काल-सम्बन्धी (विसे २२२६) ।

सपइण वि [सप्रतीण] व्याप्त (राज) ।

सपउत्त वि [सप्रयुक्त] सयुक्त, सबद्ध, जोड़ा हुआ (ठा ४, १—पत्र १८७, सूत्र २, ७, २, उवा, औप, धर्मस ६६५, राय १४६) ।

सपओग पु [राप्रयोग] सयोग, सबन्ध (ठा ४, १—पत्र १८७, स ६१४, उव ७२८ टी, कुप्र ३७३ औप) ।

सपकर देखो सपगर । सपकरेइ (उत्त २१, १६) ।

सपक पु [सपर्क] सम्बन्ध (सुपा ५८, सम्मत् १४१) ।

सपकि वि [सपर्किन्] सार्कवाला, सबन्धी (कप्प, काप्र १७) ।

सपक्खाल पु [सप्रच्छाल] तापस का एक भेद जो मिट्टी बगैरह घिस कर शरीर का प्रक्षालन करते हैं (औप) ।

सपक्खालिय वि [सप्रक्षालित] बोया हुआ (धर्म ३) ।

सपक्खत्त वि [सप्रक्षिप्त] प्रक्षिप्त, फेंका हुआ, डाला हुआ (पत्र ५, १५७) ।

सपगर सक [सप्र + कृ] करना । सपगरेइ (उत्त २१, १६) ।

सपगाढ वि [सप्रगाढ] १ श्लथन्त आसक्त (उत्त २०, ४५, सूत्र २, ६, २२) । २ व्याप्त (सूत्र १, ५, १, १७) । ३ स्थित, व्यवस्थित (सूत्र १, १२, १२) ।

सपगिद्ध वि [सप्रगृह्य] अति आसक्त (परह १, ४—पत्र ८५) ।

सपगाहिअ वि [सप्रगृहीत] खूब प्रकर्ष से गृहीत, विशेष अनिमान-युक्त (दस ६, ४, २) ।

सपज्ज अक [स + पद्] १ सपन्न होना, सिद्ध होना । २ मिलना । सपज्ज (षट्, महा) । अवि, सपज्जिस्सइ (महा) ।

सपज्जलिअ पु [सप्रज्वलित] तीसरा नक्षत्र का नववाँ नरकेन्द्रक, नरकावास विशेष (देवेन्द्र ६) ।

संपड्डिअ देखो सप्रत्थिअ = सप्रस्थित (उत्त १४२ टी, औप, सबोध ५५, सुपा ७७, उपपृ १५८) ।

सपड अक [स + पद्] १ प्राप्त होना, मिलना, युजराती में 'सपड्डु' । २ सिद्ध होना, निष्पन्न होना । सपड्ड, सपड्डि (वज्जा ११६, समु १५८, वज्जा ५०) । वक्क सपड्डत (से १४, १, सुर १०, ६७) । सपडिअ वि [दे सपन्न] लब्ध, मिला हुआ, प्राप्त (दे ८, १४, स २६६) ।

सपडिबूह सक [सप्रति + वृह] प्रशंसा करना, तारीफ करना । सपडिबूहति (सूत्र २, २, ५५) ।

सपडिल्लेह सक [सप्रति + लेहय] प्रति जागरण करना, प्रद्युषेक्षण करना, ब्रह्मी तरह निरीक्षण करना । सपडिल्लेह (उत्त २६, ४३) । कृ सपडिल्लेहिअव्य (दस १, १) ।

सपडिज्ज सक [सप्रति + पद्] स्वीकार करना । सपडिज्जइ (भग) ।

सपडिज्जत्ति स्त्री [सप्रतिपत्ति] स्वीकार, अंगीकार (विसे २६१४) ।

सपडिवाइअ वि [सप्रतिपादित] स्थित (उत्त २२, ४६, सुख २२, ४६) । २ स्थापित (दस २, १०) ।

सपडिवाय सक [सप्रति + पादय] संशय करना, प्राप्त करना । सपडिवायए (दस ६, २, २०) ।

सपणदिय } देखो सपणाइय (राज सपणहिय } कप्प) ।

सपणा देखो सपण्णा (दे ८, ८) । सपणाइय } वि [सप्रगादित] समी सपणादिय } चीन शब्दवाला, 'सुडिमसद्वं पणाइया' (जीव ३, ४—पत्र २२४, प २२७ टी) ।

सपणाअ सक [सप्र + नामय] अप्रण करना । सपणाअए (उत्त २३, १७) ।

सपणिवाय } पु [सप्रणिपात] प्रणाम सपणिवाय } समीचीन नमस्कार (पचा १ १८, वेइय २३७) ।

(कम्म ६, १६, पउम १७, १२३, पव ४६)।
 १. रह देखो १स = दशन् (षड्) रिं छी
 [०ति] सत्तर, ७० (सम ८१, कम्म, षड्)।
 रिसि पु [०च्छि] सात नक्षत्रो का मङ्गल-
 विशेष (सुपा ३५४)। १. वण्ण, वन्न पु
 [०पण] १ कृष्ण-विशेष, सतीना (श्रोप,
 भाग)। २. देव-विशेष (राय ८०)। १. वन्नव-
 डिंसय पु [०पर्णावतसक] सौधर्म देवलोक
 का एक विमान (राय ५६)। १. विह वि
 [०विध] सात प्रकार का (जी १६, प्रासू
 १०४, वि ४५१)। १. वंसइ, वीमा छी
 [०विशति] सताईम २७ (वि ४४५, भग)।
 १. सइय वि [०रातिरु] सात सौ की सत्या-
 वाला (गाया १, १—पत्र ६४)। १. सट्ट
 वि [०पट्ट] सडसडवाँ, ६७वाँ (पउम ६७,
 ५१)। १. सट्टि देखो १ट्टि (सम ७६) १. सत्त-
 मिया छी [०सत्तमिका] प्रतिज्ञा-विशेष,
 नियम-विशेष (अत्त)। १. सिक्खावइय वि
 [०शिआव्रतिरु] सात शिक्षावतवाला (गाया
 १, १२, श्रोप)। १. हत्तर वि [०सत्तल] सत्तहत्तरवाँ,
 ७७ वाँ (पउम ७७, ११८)। १. हत्तरि
 छी [०सत्तति] १ सख्या-विशेष,
 सत्तहत्तर की सख्या, ७७। २. सत्तहत्तर सख्या-
 वाला (सम ८५, भग, आ २८)। १. हा अ
 [०धा] सात प्रकार का, सत्तविध (वि
 ४५१)। १. हुत्तर देखो १. हुत्तरि (नव ८)।
 १. उंस (अप) देखो १. वीसा (वि ४४५)।
 १. णउइ छी [०नउति] सतानवे, ६७ (सम
 ६८)। १. णउय वि [०नवत] १ सतानवेवाँ,
 ६७ वा (पउम ६७, ३०)। २. जिसमें सता-
 नवे अधिक हो वह, 'सताणउयजोयणसए'
 (भग)। १. रह (अप) देखो १. रह (पिंग)।
 १. वण्ण, विण जीन [०पञ्चाशात्] १
 सत्या-विशेष, सतावन, ५७। २. सतावन
 सत्यावाला (पडि, पिंग, सम ७३, नव २)।
 १. वीसा, वीसा (पिंग, वि २६५, ४४७)।
 १. वन्न वि [०पञ्चाश] सतावनवाँ, ५७वा
 (पउम ५७, ३०)। १. वीस न [०विशति]
 १ सख्या-विशेष, सताईस। २. सताईस की
 सत्यावाला, 'एव सतावीस भगा लेयव्वा'
 (भग)। १. वीसइ जो [०विशति] वही पूर्वोक्त
 अर्थ (कुमा)। १. वीसइम वि [०विशतितम]

सताईसवाँ, २७ वाँ (पउम २७, ४२)।
 १. वीसइविह वि [०विशतिवि] सताईस
 प्रकार का (पराण १७—पत्र ५३४)। १. वीसा
 छी देखो १. वीस (हे १, ४, षड्)। १. वीसइ
 छी [०शीति] सतासी, ८७ (सम ६३)।
 १. वीसइम वि [०शीतितम] सतासीवाँ,
 ८७ वाँ, (पउम ८७, २१)।

सत्तग वि [सप्ताङ्ग] १ राजा, मन्त्री, मित्र
 कोश-भडार, देश, किला तथा सैन्य ये सात
 राज्याङ्गवाला (कुमा)। २. न. हस्ति-शरीर
 के ये सात अवयव—चार पैर, सूँठ, पुच्छ
 और लिंग, 'सत्तगपड्डिट्ठय' (उवा १०१)।

सत्तण्ह देखो सत्तण्ह = स तुण्ण।

सत्तत्थ वि [दे] अभिजात, कुलीन (दे ८,
 १०)।

सत्तम देखो सत्तम = सत्त-तम।

सत्तर देखो सत्तर = सत्तर-तम।

सत्तर देखो सत्तर = सत्त-वशन्, दश।

सत्तल न [सत्तल] पुष्प-विशेष (गळड)।

सत्तल } छी [सत्तल] लता-विशेष, नव-
 सत्तल } मालिका का गाछ (पात्र, मा
 ६१६, पउम ५३, ७६)।

सत्तली छी [ने सत्तल] लता विशेष,
 शेफालिका का गाछ (दे ८, ४)।

सत्तवीसजोयण देखो सत्तावीसजोअण
 (चड)।

सत्ता छी [सत्ता] १ सद्भाव, अस्तित्व (एदि
 १३६ टी)। २. आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों
 का अस्तित्व, कर्मों का स्वल्प से अप्रच्यव—
 अवस्थान (कम्म २, १, २५)।

सत्तावरी छी [शातावरी] कन्द-विशेष, 'सत्ता-
 वरी विराली कुमारि तह थोहरी गलोई य'
 (पव ४, सबोध ४४, आ २०)।

सत्तावीसजोअण पु [दे] चन्द्र, चन्द्रमा (दे
 ८, २२), 'सत्तावीसजोअणकरपसरो जाव
 अज्जवि न होइ' (वाअ १५)।

सत्ति छी [दे] १ तिपाई, तीन पाया वाला
 गोल काष्ठ विशेष। २. घडा रखने का पलंग
 की तरह जँचा काष्ठ-विशेष (दे ८, १)।

सत्ति जो [शक्ति] १ अन्न-विशेष (कुमा)।
 २. त्रिशूल (पएह १, १—पत्र १८)। ३

सामर्थ्य (ठा ३, १—पत्र १०६, कुमा, प्रासू
 २६)। ४. विद्या-विशेष (पउम ७, १४२)।
 १. म, मंत वि [०मन्] शक्तिवाला (ठा
 ६—पत्र ३५२, सबोध ८, उप १३६ टी)।

सत्ति पु [सत्ति] अश्व, घोडा (पात्र)।

सत्तिथ वि [सात्तिरु] सत्त्व-युक्त, सत्त्व-
 प्रधान (सूअनि ६२, हम्मोर १६, स ४)।

सत्तिअणा छी [दे] अभिजात्य, कुलीनता
 (दे ८, १६)।

सत्तवण्ण } देखो सत्त-वण्ण (सम १५२,
 सत्तिवन्न } पि १०३, विचार १४८)।

सत्तु पु [शत्रु] रिपु, दुश्मन, वैरी (गाया
 ६, १—पत्र, कम्म, सुपा ७)। १. इ वि
 [०जन्] १ शत्रु को जीतनेवाला। २. पु

एक राजा का नाम (प्राक् ६५)। १. ग्व वि
 [०ग्व] १ रिपु को मारनेवाला (प्राक् ६४)।

२. पुं रामचन्द्र का एक छोटा भाई (पउम
 २५, १४)। १. निहण [०निहण] वही पूर्वोक्त
 अर्थ (पउम १०, ६६)। १. महण वि [०महण]
 शत्रु का मर्दन करनेवाला (सम १५२)। १. सेण
 पु [०सेण] एक अन्तकृद् मुनि (अत्त ३)।

१. हण देखो १. ग्व (पउम ८०, ३८)।

सत्तु } पु [सत्तु] सत्तु, सत्तुआ, भुजे
 सत्तुअ } हुए भव आदि का रूप (पि
 ३६७, निह १, स २५३, सुर ५, २०६,
 सुपा ४०६, महा)।

सत्तुज न [शत्रुज] १ एक विद्यावर-नगर
 (इक)। २. पु. रामचन्द्रजी का एक छोटा
 भाई, शत्रुघ्न (पउम ३२, ४७)।

सत्तुजय पु [शत्रुजय] १ काठियावाड मे
 पालीताना के पास का एक सुप्रसिद्ध पर्वत
 जो जैनो का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है (सुर ५,
 २०३)। २. एक राजा का नाम (राज)।

सत्तुंदस पु [शत्रुन्दम] एक राजा का नाम
 (पउम ३८, ४५)।

सत्तुग देखो सत्तुअ (कुप्र १२)।

सत्तुत्तरि छी [सत्तसत्ति] सत्तहत्तर, ७७
 (कम्म ६, ४८)।

सत्थ वि [शस्त] प्रशस्त, श्लाघनीय (वेइय
 ५७२)।

सत्थ न [गत्थ] हथियार, आयुध प्रहरण
 (आचा, उप, भग, प्रासू १०५)। १. कांस पु

सपलत्त वि [सप्रलपित] उक्त, कथित, प्रतिपादित (शाया १, २—पत्र ८६) ।

सपललिय वि [सप्रललित] जिसका अच्छी तरह लालन हुआ हो वह, 'सुहसपललिया' (श्रीप) ।

संपलिअ पुं [सपलित] एक जैन महर्षि (कम्प) ।

सपलिअंक पु [सपर्यङ्क] पद्यासन (भग, श्रीप, कम्प, राय १४५) ।

सपलित्त वि [संप्रदीप्त] प्रज्वलित, सुलगा हुआ (शाया १, १—पत्र ६३, पत्र २२, १६, धर्मस ६७०, सुपा २६८, महा) ।

संपल्लिमज्ज सक [सपरि + मृज्] प्रमार्जन करना । वहु सपल्लिमज्जाण (आचा १, ५, ४, ३) ।

सपली सक [सपरि + इ] जाना, गति करना । सपलिति (सूत्र १, १, २, ७) ।

संपवेय } अक [सप्र + वेप्] कांपना ।
सपवेव } सपवेवए, सपवेवए (आचा २, १६, ३) ।

सपवेस पुं [संप्रवेश] प्रवेश, पैठ (गउड) ।

सपव्वय सक [सप्र + व्रज्] गमन करना, जाना । वहु सपव्वयमाण (आचा १, ५, ५, ३, ठा ६—पत्र ३५२) । हेहु सपव्व-इत्तए (कस) ।

संपसार पु [सप्रसार] एकचित्त होना, समवाय (राज) ।

सपसारण } वि [सप्रसारण] १ विस्तार-
सपसारय } रक, फैलानेवाला (सूत्र १, २, २, २८) । २ पर्यालोचनकर्ता (आचा १, ५, ४, ५) ।

सपसारि वि [सप्रसारिन्] ऊपर देखो (सूत्र १, ६, १६) ।

सपसिद्ध वि [सप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्ध (धर्मस ८३७) ।

सपस्स सक [स + ट्ठस्] १ अच्छी तरह देखना । विचार करना । सहु सपस्सिय (वसन् १, १८) ।

सपहार सक [सप्र + धारय] १ चित्तन करना । २ निर्णय करना, निश्चय करना । सपहारंति (सुख १, १५) । भुका सपहारिदु

(सूत्र २, १, १४, २६) । सहु सपहारिऊण (स १०६) ।

सपहार पु [सप्रधार] निश्चय, निर्णय (पत्र १६, २६, उप १०३१ टी, भवि) ।

सपहार पु [सप्रहार] युद्ध, लड़ाई (से ८, ४६) ।

सपहारण न [सप्रधारण] निश्चय (पत्र ४८, ६८) ।

सपहाव सक [सप्र + वाव्] दौटना । सपहावेइ (आचा २, १, ३, ३) ।

सपहिद्ध वि [सप्रहृष्ट] हर्षित, प्रमुदित (उत्त १५, ३) ।

सपा खी [दे] कांची, भेखला, कर्षणी (दे ८, २) ।

सपाइअव वि [सपादितवत्] जिसने सम्पादन किया हो वह (हे ४, २६५, विसे ६३४) ।

सपाइम वि [सपातिम] १ भ्रमर, कीट, पतंग आदि उड़नेवाला जंतु (आचा, पिठ २४, सुपा ४६१, श्रोष ३४८) । २ जानेवाला, गति-कर्ता, 'तिरिच्छसपाइमा वा तसा पाया' (आचा २, १, ३, ६, २, ३, १, १४) ।

सपाइय वि [सपातित] १ आगत, आया हुआ । २ मिलित, मिला हुआ (भवि) ।

सपाइय वि [सपादित] साधित, सिद्ध किया हुआ, 'सपाइयइट्ठफलि' (सण) ।

सपाऊण सक [सप्र + आप्] अच्छी तरह प्राप्त करना । सपाऊणइ, सपाऊणति (उत्त २६, ५६, पि ५०४) । भवि सपाऊणिस्सामो (शाया १, १८—पत्र २४१) । प्रयो 'जेण्णाम्हा पर वेव तिद्धि सपाऊण्जेज्जाति' (उत्त ११, ३२) ।

सपाओ भ [सप्रातर] १ जब प्रभात होय तब, प्रात काल । २ अति प्रभात, बड़ी सुबह । ३ हर प्रभात (ठा ३, १ टी—पत्र ११८) ।

सपागड वि [सप्रकट] प्रकट, खुला, 'सपागडपडिसेवी' (ठा ४, १—पत्र २०३, जव) ।

सपाड सक [सं + पादय] १ सिद्ध करना, निष्पन्न करना । २ प्रायित वस्तु देना,

दान करना । ४ प्राप्त करना, 'वेइ सो जम्मण्णिय, सपाडेइ वत्थाभरण्णइय' (महा), 'सपाडेमि भयवमो भाए ति' (स ६८५), सपाडेउ (स ६६) । कृ सपाडेयव्व (स २१४) ।

सपाडग वि [सपाडक] कर्ता, निर्माता, 'वा को अन्नो तस्सुन्नइए सपाडजो होच्चा' (उप १४२ टी) ।

सपाडण न [संपादन] १ निष्पादन (स ७४८) । २ करण निर्माण (पचा ६, ३८), 'परत्थसपाडणिकरसिअत्त' (सा ११) ।

सपाडिअ वि [सपादित] १ सिद्ध किया हुआ, निष्पादित (स २१४, सुर २, १७०) । २ प्राप्त किया हुआ (उप १२४) । ३ दत्त, अर्पित (स २३५) ।

सपातो देखो सपाओ (ठा ३, १—पत्र ११७) ।

सपाद (शौ) देखो सपाड = सं + पादप् । सपादेदि (नाट—शुक्र ६५) । कृ सपादणीअ (नाट—विज्र ६०) ।

सपादइत्तअ (शौ) वि [सपादविट्] सपादन-कर्ता, सपादक (पि ६००) ।

सपादिअवद् (शौ) देखो सपाइअव (पि ५८६) ।

सपाय पु [सपात] सम्यकपत्त, 'सल्लि सपायकयकइसुप्पोलय' (सुर ३, ११६) । सवन्ध, सयोग, 'सारीरमाणसाणैयदुक्खसंघा यकलिय ति' (सुर ४, ७५, गउड) ३ व्य का फूट, निरर्थक अतल्य-भाषण (पणह ५—पत्र ६२) । सग सगति (धा ६, प १, ४१) । ५ आगमन (पचा ७, ७२) । चलन, हिलन (उत्त १८, २३, सुख १, २३) ।

सपाय देखो सपाओ (राज) । सपायग वि [सपादक] सपादन-कर्ता (२ पु २६, महा, वेइय ६०५) ।

सपायग वि [सप्रापक] १ प्राप्त करनेवा 'रिसिणुएसपायगो होइ' (वेइय ६०५) । प्राप्त करानेवाला (उप १२६) ।

सपायण देखो सपाडण (सुर ४, ७३, पु २८, ३४३, वेइय ७६७) ।

(स्वप्न ६२) । कर्म, सहावीभ्रति (भ्रमि १२८) । सकृ, सहावित्ता, सहावेत्ता (पि ५८२, महा) ।

सहाविय वि [शब्दित, सव्दायित] आहूत, बुलाया हुआ (कम्प, महा, सुर ८, १३३) ।

सह्निअ वि [शब्दित] १ प्रसिद्ध (श्रौप, शाया १, १ टी—पत्र ३) । २ आहूत (सुपा ४१३, महा) । ३ वातित, जिसको वात कही गई हो वह (कुमा ३, ३४) ।

सह्निअ वि [शाब्दिक] शब्द-शास्त्र का ज्ञाता (अणु २३४) ।

सद्दूल पु [शार्दूल] १ श्वापद पशु की एक जाति, बाघ (पात्र, परह १, १—पत्र ७, दे १, २४, भ्रमि ५५) । २ छन्द विशेष (पिंग) । °विक्रीडिअ न [°विक्रीडित] उन्नीस अक्षरो के पादवाला एक छन्द (पिंग) । °सट्ट पुन [°साट्ट] छन्द-विशेष (पिंग) ।

सद्दु देखो स-द्दु = सार्ध ।

सद्दु न [°श्राद्ध] १ पितरो की वृत्ति के लिए तर्पण, पिएड दानादि (अच्छु १७, पुष्प १६७) । २ वि श्रद्धावाला, श्रद्धालु (उप ८६८) । देखो सद्दु = श्राद्ध (उप १६६) । °पक्ख पु [°पक्ष] आरिवन मास का कृष्ण पक्ष (दे ६, १२७) ।

सद्दु देखो सज्ज = साध्य (नाट—वैत ३५) ।

सद्दुड पु [श्राद्ध] व्यक्ति-वाचक नाम (महा) ।

सद्दुरा व्री [सग्वरा] एककोस अक्षरो के चरणवाला एक छन्द (पिंग) ।

सद्दुल पु [सद्दुल] एक प्रकार का हथियार, कुन्त, वर्या (परह १, १—पत्र १८) । देखो सव्वल ।

सद्दुस देवो सज्जस (प्राक् २१, प्राप्र) ।

सद्दु देखो सद्दुहा (हे २, ४१, शाया १, १—पत्र ७४, प्रासू ४६, पात्र) । °ल वि [°वन] श्रद्धावाला (चड, श्रावक १७५) । °लु वि [°लु] वही अर्थ (सवोव ८) । जी. °लुगा (गा ४, ५) ।

सद्दुअ वि [°द्विक्र] श्रद्धावाला (परह १, ३—पत्र ४४, वसु, श्रौषभा १६ टी) ।

सद्दु अ [सार्धम्] सहित, साथ (आचा, उवा, उत १६३) ।

सद्देय वि [श्रद्धेय] श्रद्धास्पद (विसे ४८२) । सधम्म वि [सधर्म्मन्] समान धर्मवाला (स ७१२) ।

सधम्मिअ देखो स-धम्मिअ = सध-धार्मिक । सधम्मिणी व्री [सधम्मिणी] पत्नी (दे २, १०६, सण) ।

सधवा देखो स-धवा = स धवा ।

सनय देखो स-नय = स-नय ।

सन्न वि [सन्न] १ क्लान्त (पात्र) । २ श्रवसन्त, मग्न (सूय १, २, १, १०) । ३ खिन्न (परह १, ३—पत्र ५५) ।

सन्नाण देखो स-न्नाण = सज्जान ।

सन्नाम सक [आ + ट] आदर करना, समान करना । सन्नामइ, सन्नामेइ (षड्, हे ४, ८३) ।

सन्नामिअ वि [आहृत] समानित (कुमा) ।

सन्निअथ वि [दे] परिहित, पहना हुआ (सुपा ३६) ।

सन्निअ (अप) देखो सणिअ (भवि) ।

सन्निर न [दे] पत्र-शाक, भाजी (दस ५, १, ७०) ।

सन्नुम सक [छाद्य] आच्छादन करना, ढाकना । सन्नुमइ (हे ४, २१) ।

सन्मुमिअ वि [छादित] ढका हुआ (कुमा) ।

सन्ह देखो सण्ह = ऋक्षण (कम्प) ।

सप देखो सव = शप् । सपइ (विसे २२२७) ।

सपक्ख देखो स-पक्ख = स-पक्ष ।

सपक्ख देखो स पक्ख = स्व-पक्ष ।

सपक्खिअ अ [सपक्षम्] अभिमुख, सामने (अत १४) ।

सपक्खी व्री [सपक्षी] एक महौषधि (ती ५) ।

सपज्जा व्री [सपर्या] पूजा (अच्छु ७०) ।

सपडिदिसि अ [सप्रतिदिक्] श्रत्यन्त समुख, ठीक सामने (अत १४) ।

सपरत्तिअ वि [सपत्रित] वाण से अतिव्यथित (दे १, १३५) ।

सपह देखो सवह (धर्मवि १२६) ।

सपाग देखो स-पाग = ध-पाक ।

सपिसल्लग देखो सपिसल्लग (पि २३२) ।

सप्प सक [सृप्] १ जाना, गमन करना । २ आक्रमण करना । सप्पइ (घात्वा १५५), 'घोरविशा वि हु सप्पा सप्पति न वद्धवयणुव' (सुर २, २४३) । वक्क सप्पत, सप्पमाण (गउड, कम्प) । क्क. सप्पणीअ (नाट—शकु १४७) ।

सप्प पुक्खी [सर्ष] १ साँप, भुजगम (उवा, सुर २, १४३, जी २१, प्रासू १६, ३८, ११२) । व्री °प्पी (राज) । २ पुं. अश्लेषा नक्षत्र का अधिष्ठाता देव (सुज्ज १०, १२, ठा २, ३—पत्र ७७) । ३ एक नरकस्थान (देवेन्द्र २७) । ४ छन्द-विशेष (पिंग) । °सिर पु [°शिरस] हस्त-विशेष, वह हाथ जिसकी उगलियाँ श्रौर श्रुगुठा मिला हुआ हो और तला नीचा हो (दे ८, ७२) । °सुगधा व्री [°सुगन्धा] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३६) ।

सप्पभ देवो स-प्पभ = स्व-प्रभ, सत्-प्रभ, स-प्रभ ।

सप्पमाण देखो सप्प = सप्, सव = शप् ।

सप्परिआव } देखो स-प्परिआव = स-
सप्परिताव } परिताप ।

सप्पि न [सर्पिस] घृत, घी (पात्र, पत्र ४, सुपा १३, सिरि ११८४, सण) । °आसव, °यासव वि [°आसव] लब्धि-विशेषवाला, जिसका वचन घी की तरह मधुर होता है (परह २, १—पत्र १००) ।

सप्पि वि [सर्पिन्] १ जानेवाला, गति करने-वाला (कम्प) । २ रोगि-विशेष, हाथ में लकड़ी के सहारे से चल सकनेवाला रोगि-विशेष (परह २, ५—पत्र १००) ।

सप्पिसल्लग देखो स-प्पिसल्लग = स-पिशा-चक ।

सप्पी देखो सप्प = सर्प ।

सप्पुरिस देखो स-प्पुरिस = सत्-पुख ।

सप्फ न [शप्] बाल चूण, नया घास (हे २, ५३, प्राप्र) ।

सप्फ न [दे] कुमुद, कैरव, 'चदुज्य तु कुमुअ गहहय केरव सप्फ' (पात्र) ।

सप्फद देखो स-प्फद = स-स्फन्द ।

सवल पुंन [शम्बल] १ पाथेय, रास्ते मे खाने का भोजन, 'घन्नाएँ चिय परलोयसवलो भिलइ नन्नाएँ' (सम्मत्त १५७, पाथ, सुर १६, ५०, दे ६, १०८, महा, भवि, सुपा ६४) । २ एक नागकुमार देव (भावम) ।

सबलि देखो सिबलि = शिम्बलि (आचा २, १, १०, ४) ।

संबलि पुत्री [शात्मलि] वृक्ष-विशेष, सेमल का पेड (सुर २, २३४, ८, ५७) । देखो सिबलि ।

सवाधा देखो सवाहा (पउम २, ८६) ।

सवाह सक [स + वाध्] १ पीडा करना । २ दवाना, चप्पी करना । सवाहणजा (निचू ३) ।

सवाह पुं [सवाध] १ नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण आदि चारो वर्गों की प्रभूत वस्ती हो वह शहर (उत्त ३०, १६) । २ पीडा, 'सवाहा वहवे भुज्जो दुरइक्कमा अजाएओ अपासओ' (आचा) । ३ वि सनीएँ, सकरा, 'सवाह सकिएण' (पाथ) ।

संवाहण न [सवाधन] देखो सवाहण (आचा १, ६, ४, २) ।

सवाहणा स्त्री [सवाधना] देखो सवाहणा (श्रौप) ।

सवाहणी स्त्री [सवाधनी] विद्या विशेष (पउम ७, १३७) ।

सवाहा स्त्री [सवाधा] १ पीडा (आचा १, ५, ४, २) । २ अंग-मर्दन, चप्पी (निचू ३) ।

सवाहिय वि [सवाधित] १ पीडित (सूत्र १, ५, २, १८) । २ देखो सवाहिय (श्रौप) ।

सवुक्क पु [शम्बुक] १ शंख (आ ४, २—पत्र २१६, सुपा ५०, १६५) । २ रावण का एक भागिनिय—लखद्वेषण का पुत्र (पउम ४३, १८) । ३ एक गाँव का नाम (राज) । 'वट्टा स्त्री [वैतो] शंख के आवर्त के समान शिक्षा-चर्या (उत्त ३०, १६) । देखो सवुअ ।

सवुक्क सक [स + वुध्] समझना, ज्ञान पाना । सवुक्कइ, सवुक्कति, सवुक्कह (महा,

स ४८६, सूत्र १, २, १, १, वै ७३) । वक्क, सवुक्कमाण (आचा १, १, २, ५) ।

सवुद्ध वि [सवुद्ध] ज्ञान-प्राप्त (उवा, महा) । सवुद्धि स्त्री [सवुद्धि] ज्ञान, बोध (अचक ३६) ।

सवुअ पु [शम्बुक] जल-शुक्ति, शुक्ति के आकार का जल-जलु-विशेष (दे ८, १६, गउड) ।

सवोधि स्त्री [सवोधि] सत्य धर्म की प्राप्ति (धर्मस १३६६) ।

सवोह सक [स + वोधय्] १ समझना, बुझना । २ आमन्त्रण करना । ३ विज्ञप्ति करना । सवोहइ, सवोहेइ (भवि, महा) । कवक्क सवोहिज्जमाण (आया १, १४) । क्क सवोहेअव्व (आ ४, ३—पत्र २४३) ।

सवोह पु [सवोध] ज्ञान, बोध, समझ (आत्म २०) ।

सवोहण न [सवोधन] १ ऊपर देखो (विसे २३३२, सुख १०, १, चेइय ७७५) । २ आमन्त्रण (गउड) । ३ विज्ञप्ति (आया १, ८—पत्र १५१) ।

सवोहि देखो सवोधि (उप पु १७६, वै ७३) ।

सवोहिअ वि [सवोधित] १ समझाया हुआ (यति ४८) । २ विज्ञापित (आया १, ८—पत्र १५१) ।

सभत वि [सभ्रान्त] १ भीत, घबडाया हुआ, त्रस्त (उत्त १८, ७, महा, गउड) । २ पुन प्रथम तरक का पाचवाँ नरकेन्द्रक-नरकस्थान-विशेष (द्वेन्द्र ४) । ३ न भय, घबराहट (महा) ।

सभति स्त्री [सभ्रान्ति] सभ्रम, उत्सुकता (भग १६, ५—पत्र ७०६) ।

सभतिय वि [सभ्रान्तिक] सभ्रम से बना हुआ (भग १६, ५—पत्र ७०६) ।

सभग्ग वि [सभग्ग] चूर्णित (उत्त १६, ६१) ।

सभण सक [स + भण्] कहना । सक सभणिय (पिंग) ।

सभणिय वि [सभणित] कथित, उक्त (पिंग) ।

सभम सक [स + भ्रम्] १ अतिशय भ्रमण करना । २ भ्रक भय-भीत होना, घबडाना । वक्क, सभमत (पि २७४) ।

सभम पु [सभ्रम] १ आदर, 'सममो आयरो पयतो य' (पाथ) । २ भय, घबराहट, क्षाम 'सखोहो सभमो तासो' (पाथ, प्राप् १, ५, महा) । ३ उत्सुकता (श्रौप) ।

सभर सक [स + भृ] १ धारण करना । २ पोषण करना । ३ संक्षेप करना, संक्षेप करना । वक्क सभरमाण (वे ७, ४१) । सक सभरि (अप) (पिंग) ।

सभर सक [स + स्मृ] स्मरण करना, याद करना । सभरेइ, सभरिमो (महा, पि ४५१) । वक्क सभरत, सभरमाण (गा २६, पुण ३१७, वे ७, ४१) । क्क सभरणिज्ज, सभरणीय (धम्मो १८, उप ५३८ टी) ।

सभरण न [सभरण] स्मरण, याद (गा २२२, आया १, १—पत्र ७१, दे ७, २५, उवकु १४) ।

सभरणा स्त्री [सभरणा] ऊपर देखो (व ५३० टी) ।

सभराविअ वि [सभ्रारित] याद करण हुआ (दे ८, २५, कुम ४२१) ।

सभरिय वि [सस्मृत] याद क्रिया हुँ (गउड, काप्र ८६२) ।

सभल सक [स + भल] याद करना सभलइ (उप पु ११३) । कर्म सभलिय (वज्जा ८०) । वक्क सभलि (अप) (पि २६७) ।

सभल सक [स + भल] १ सुन चुभराती मे 'साभवु' । २ भ्रक सम्मत्त सावधान होना । सभलइ (भवि), 'सभ मह पइन्न' (सम्मत्त २१७) । सक सभ (अप) (पिंग २८६) ।

सभली स्त्री [दे सभली] १ दूती (दे ८, वव ५) । २ कुट्टनी, पर-पुष्प के साथ स्त्री का योग करानेवाली स्त्री (कुवा) ।

सभय यक [स + भू] १ उल्लन होना सावधान होना, उत्कट सशय होना । सा

समउ—समणुभूअ

समउ (अप) नीचे देखो (भवि) ।
 सम अ [समम्] साथ, सह (गा १०२, १६४, २६५, उत १६, ३, महा, कुमा) ।
 समजस वि [समजस] उचित, योग्य (आचा, गउड, भवि) ।
 समत^० देखो समता, 'वसिओ अगेसु समत-पीएकएकचुरो सेओ' (गउड) ।
 समत देखो सामन्त (उप पृ ३२७) ।
 समत (अप) देखो समत्थ = समस्त (पिंग) ।
 समतओ अ [समन्तस] सर्वत, चारो तरफ (गा ६७३, सुर २, २३८) ।
 समता अ [समन्तात्] ऊपर देखो समतेण (पात्र, भग, विपा १, २—पत्र २६, से ६, ५१, सुर २, २८, १३, १६५) ।
 समकत वि [समाक्रान्त] १ जिसपर आक्रमण किया गया हो वह (से ५, ५७) । २ अकद, रोका हुआ (ने ८, ३३) ।
 समकल न [समक्ष] नजर के सामने, प्रत्यक्ष (गा ३७०, सुपा १५०, महा) । देखो समच्छ ।
 समकलाय } वि [समाख्यात] उक्त, समक्खिअ } कथित (उप २११ टी, ६६४, जो २५, श्रु १३३) ।
 समग देखो समय = समकय (पव २३२, सुपा, ८७, सण) ।
 समग वि [समग्र] १ सकल, समस्त (सुपा ६६) । २ युक्त, सहित (पएह १, ३—पत्र ४४, कुप्र ७) ।
 समगल वि [समगल] अर्थाधिक (सिरि ८६७, सुपा ३६७, ४२०) ।
 समगल (अप) देखो समगग (पिंग) ।
 समग्य वि [समर्च] सस्ता, अल्प मूल्यवाला (सुपा ४४५, ४४७, सम्मत १४१) ।
 समचण न [समर्चन] पूजन, पूजा (सुपा ६) ।
 समच्चिअ वि [समचित] पूजित (पउम ११६, ११) ।
 समच्छ अक [सम् + आस्] १ बैठना । २ गक अवलम्बन करना । ३ अचीन रखना । वक. समच्छेत (उप ६६८ टी) ।
 समच्छ वि [समक्ष] प्रत्यक्ष का विषय (ससि १५) । देखो समकल ।

समच्छायग वि [समानच्छादक] ढकनेवाला (स ६६) ।

समज्ज } सक [सम् + अर्ज] वैवा
 समज्जिण } करना, उपार्जन करना । समज्जइ, समज्जिणइ (सख, पव १०, महा) । वक. समज्जिणमाण (विपा १, १—पत्र १२) । सक समज्जिवि (अप) (सण) ।

समज्जिणिय } वि [समज्जित] उपार्जित
 समज्जिय } (सख, ठा ३, १—पत्र ११४, सुपा २०५, सण) ।

समज्जासिय वि [समध्यासित] अधिष्ठित (सुज्ज १०, १) ।

समट्ट वि [समर्थ] सगत अर्थ, व्याजवी, न्याय-युक्त (याया १, १—पत्र ६२, उवा) । देखो समत्थ = समर्थ ।

समण न [शमन] १ उपशमन, दवाना, शान्त करना (सुपा ३६६) । २ पथ्यानुष्ठान (उवर १४०) । ३ एक दिन का उपवास (सबोध ५८) । ४ वि, उपशमन करनेवाला, दवाने-वाला (उप ७८२, पचा ४, २६, सुर ४, २३१) ।

समण देखो स-मण = स-मनस् ।

समण देखो सवण = श्रवण (पउम १७, १०७, राज) ।

समण पु [समण] सर्वत्र समान प्रवृत्तिवाला, मुनि, साधु (अणु) ।

समण पु [श्रमण] १ भगवान् महावीर (आचा २, १५, ३) । २ पुत्री, निर्दय्य मुनि साधु, मति, मिश्र, सन्यासी, तापस, 'निगय-सकतावसमेव्यआजीव पचहा समणा' (पव ६४, अणु, आचा, उवा, कप्प, विपा १, १, घण २१, सुर १०, २२४) । जो ँणी (भग, गच्छ १, १५) । ँसीह पु [सिंह] १ एक जैन मुनि जो दूसरे वलदेव के पूर्वजन्मिय गुरु थे (पउम २०, १६२) । २ श्रेष्ठ मुनि (पएह २, ५—पत्र १४८) । ँवासग, ँवासय पुजी [पासक] श्रावक, जैन गृहस्थ (उवा) । जो ँसया (उवा, याया १, १४—पत्र १८७) ।

समणतरु (अप) न [समनन्तरम्] अनन्तर, वाद मे, पीछे (सण) ।

समणकख देखो स-मणकख = स-मनस्क ।

समणुगच्छ } सक [समनु + गम्] १
 समणुगम } अनुसरण करना । २ अच्छी तरह व्याख्या करना । ३ अक सवद होना, जुड जाना । वक. समणुगच्छमाण (याया १, १—पत्र २५) । कवक. समणुगमत, समणुगम्ममाण (श्रौप, सुअ २, २, ७६, याया १, १—पत्र ३२, कप्प) ।

समणुगय वि [समनुगत] १ अनुष्ठान (स ७२०) । २ अनुविद्ध, जुडा हुआ (पचा ६, ४६) ।

समणुचिण वि [समनुचीर्ण] आचरित, विहित, 'तवो समणुचिणो' (पउम ६, १६४) ।

समणुजाण सक [समनु + ज्ञा] १ अनुमोदन करना, अनुमति देना । २ अधिकार प्रदान करना । समणुजाणइ, समणुजाणाइ, समणुजाणेजा (आचा) । वक. समणुजाणमाण (आचा) ।

समणुजाय वि [समनुजात] उत्पन्न, सजात (पउम १००, २४, सुपा ५७८) ।

समणुनाय वि [समनुजात] अनुमत, अनुमोदित (पउम ८, ७) ।

ससणुअ वि [समनुअ] अनुमोदन कर्ता (आचा १, १, १, ५) ।

समणुअ वि [समनोज्ज] १ सुन्दर, मनोहर । २ सुन्दर वेष आदिवाला (आचा १, ८, १, १) । ३ सविग्न, सवेग-युक्त मुनि (आचा १, ८, २, ६) । ४ समान समाचारीवाला—सामोतिक मुनि (ठा ३, ३—पत्र १३६, वव १) ।

समणुअ जो [समनुजा] १ अनुमति, समति २ अधिकार-प्रदान (ठा ३, ३—पत्र १३६) ।

समणुअय देखो समणुनाय (आचा २, १०, ४) ।

समणुपत्त वि [समनुप्राप्त] संग्राह (सुर १, १८३, १०, १२०, सिरि ४३०, महा) ।

समणुवद्ध वि [समनुवद्ध] निरन्तर रूप से व्याप्त (याया १, ३—पत्र ६१, श्रौप, उवा) ।

समणुभूअ वि [समनुभूत] अच्छी तरह जिसका अनुभव किया गया हो वह (वै ६२) ।

संभोगि वि [संभोगिन्] देखो सभोइअ
(कुप्र १७२)।

संभोगिय देखो सभोइअ (ठा ३, ३—पत्र
१३६)।

समइ स्त्री [संमति] १ अनुमति (सूय १, ८,
१४, विसे २२०६)। २ पु. वायुकाय, पवन।
३ वायुकाय का अविष्टाता देव (ठा ५, १—
पत्र २६२)।

समज पुं [समार्ज] समार्जन, साफ करना
(विसे ६२५)।

समजग पुं [समजक] वानप्रस्थ तापसो
की एक जाति (श्रीप)।

समजण न [समार्जन] साफ करना, प्रमार्जन
(अभि १२६)।

समजणी स्त्री [समार्जनी] भाडू (दे ६,
६७)।

समजिय वि [समार्जित] साफ किया हुआ
(सुपा ५४, श्रीप, भवि)।

समद्वि वि [समृष्ट] १ प्रमार्जित, सफा किया
हुआ (राय १००, श्रीप, पत्र १३३)। २ पूर्ण
भरा हुआ (जोवस ११६, पत्र १५८)।

समद्वु पुं [संमर्द] १ युद्ध, लड़ाई (हे २,
३६)। २ परस्पर संघर्ष (हे २, ३६,
कुमा)।

समद्विअ वि [समर्दित] सघृष्ट (हे २, ३६)।
समद्व सक [स + मृद्] मर्दना करना।
सक समद्विआ (दस ५, २, १६)।

समद्व देखो समद्वु (उप १३६ टी, पाप्र, दे
१, ६३, सुपा २२२, प्राकृ ८६)।

समदा स्त्री [समर्दा] प्रत्युपेक्षाणा-विशेष, वच
के कोनो को मध्य भाग मे रखकर अथवा
उपवि पर बैठकर जो प्रत्युपेक्षाणा—निरी-
क्षण की जाय वह (श्रीव २६६ श्रीधभा
१६२)।

समय वि [समत] १ अनुमत। २ अभीष्ट
(उव)।

समविय वि [समापित] नापा हुआ (भवि)।
समा अक [स + मा] समाना, अटना।
समाइ (कुप्र २७७)।

समाण सक [स + मानय] आदर करना,
गौरव करना। समाणइ, समाणइ, समाणिति,

समाणो (भवि, उवा, महा, कप्प, पि
४७०)। भवि समाणेहिति (पि ५२८)।

वक्र. समाणत, समाणेत (सुपा २२४,
पउम १०५, ७६)। सक्र. समाणऊण,
समाणऊण, समाणित्ता (महा, कप्प)।
कवक्र समाणिज्जमाण (काल)। क समा-
णणिज्ज (राया १, १ टी—पत्र ४, उवा)।

समाण पु [समान] आदर, गौरव (उव, हे
४, ३१६, नाट—मालवि ६३)।

समाणण न [समानन] ऊपर देखो (सुपा
२०८)।

समाणिय वि [समानित] जिसका आदर
किया गया हो वह (कप्प, महा)।

समिद् (शौ) वि [समित] १ तुल्य, समान।
२ समान परिमाणवाला (अभि १८६)।

समिल अक [स + मिल] मिलना। समि-
लइ (भवि)।

समिलिअ वि [समिलिज] मिला हुआ
(भवि)।

समिलि अक [स + मीळ] सक्कुचाना,
सकोच करना। समिलिइ (हे ४, २३२, षड्,
धात्वा १५५)।

समिस्स वि [समिश्र] १ मिला हुआ, युक्त
(महा)। २ उलटी हुई छालवाला (आचा
२, १, ८, ६)।

समील देखो समिलि। समीलइ (हे ४, २३२,
षड्)।

समीलिअ वि [समीलित] सकुचित (से १२,
१)।

समीस देखो समिस्स (सुर २, १११, सण)।

समुइ पु [समुचि] भारतवर्ष मे भविष्य मे
होनेवाला एक कुलकर पुरुष (ठा १०—पत्र
५६८)।

समुच्छ अक [स + भूच्छ] उत्पन्न
होना, 'एतासि य वेसाण अत्तेसु अएणत-
रीओ छिएणवेसाओ समुच्छति' (सुज ६)।

समुच्छण स्त्री [समूर्च्छन] स्त्री-पुरुष के
सयोग के बिना ही युवादि की तरह होती
जीवो की उत्पत्ति (धर्मसं १०१७)। स्त्री. ँणा
(धर्मसं १०३१)।

समुच्छिम वि [समूर्च्छिम] स्त्री-पुरुष के
समागम के बिना उत्पन्न होनेवाला प्राणी
(आचा: ठा ५, ३—पत्र ३३४ सम १४६,
जो २३)।

समुच्छिअ वि [समूर्च्छित] उत्पन्न (सुव
६)।

समुज्ज अक [स + मुह] मोह करना
मुग्ध होना समुज्जइ (सवोच ५२)।

समुत्त देखो समुत्त (राज)।

समुस सक [स + मृश] पूर्ण रूप से सर्व
करना। वक्र. समुसमाण (भग ८, ३—
पत्र ३६५)।

समुह वि [समुख] सामने आया हुआ (हि १,
२६, ४, ३६५, ४१४, महा)। स्त्री ही
(काप्र ७२३)।

समूढ वि [समूढ] जड़, विमूढ (पाप्र, सुपा
५५०)।

समेअ पु [समेत] १ पर्वत विशेष जो
आजकल 'पारसनाथ पहाड़' के नाम से प्रसिद्ध
है (राया १, ८—पत्र १५४, कप्प, महा,
सुपा २११, ५८४, विसे १८)। २ राम का
एक सुभट (पउम ५६, ३७)।

समेल पु [समेल] परिजन अथवा मित्रो का
जिमनवार, प्रीति-भोजन (आचा २, १,
४, १)।

समोइ पु [समोह] १ मूढता; अज्ञान (अणु,
स ३५८)। २ मूर्च्छा (सिक्खा ४२)। ३
दुःख, कष्ट (से ३, १३)। ४ सतिपात रोप
(उप १९०)।

समोह न [सामोह] १ मिथ्यात्व का एक
भेद—रागी को देव, रागी—परिग्रही को
गुरु और हिंसा को धर्म मानना (सवोच ५२)।
२ वि सामोह-सवन्वी (ठा ४, ४—पत्र
२७४)। स्त्री हा, ही (ठा ४, ४ टी—पत्र
२७४, वृह १)।

समोहण न [समोहन] १ मोहित करना।
२ मूर्च्छित करना (कुप्र २५०)।

समोहा स्त्री [समोहा] छन्द-विशेष (पिंग)।
सरभ पु [सरम्भ] १ हिंसा करने का संकल्प,
'सकप्पो सारंभो' (सवोच ४१, आ ७)। २
आटोप (कुमा १, २१, ६, ६२)। ३ उवण
(कुमा ५, ७०)। ४ क्रोध, गुस्सा (पाप्र)।

समाहिअ वि [समाहृत] गृहीत (आचा १, ८, ५, २)।

समाहिअ वि [समाख्यात] सम्यग् कथित (सूत्र १, ६, २६, आचा २, १६, ४)।

समाहुत्त (अप) नीचे देखो (भवि)।

समाहूअ वि [समाहृत] बुलाया हुआ, आकारित (साधं १०५)।

समाहे सक [समा + धा] स्वस्थ करना, 'सुकृष्णाण समाहेइ' (सन्नेष ५१)।

समि वी [शमि] देखो समी (अणु, पात्र)।

समि वि [शमिन्, क] १ शम-युक्त।

समिअ } २ पु साधु, मुनि (सुपा ४३६, ६४२, उप १४२ टी)।

समिअ देखो सत = शान्त (सिरि ११०४)।

समिअ वि [समित] सम्यक् प्रवृत्ति करनेवाला, सावधान होकर गति आदि करनेवाला (भग, उप ६०४, कप्प, औप, उव, सूत्र १, १६, २, पव ७२)। २ राग-आदि से रहित (सूत्र १, ६, ४)। ३ उपपन्न (सुज ६)। ४ सम्यग् गत (सूत्र १, ६, ४)। ५ सन्तत (ठा २, २—पत्र ५८)। ६ सम्यग् व्यवस्थित (सूत्र २, ५, ३१)।

समिअ वि [सम्यञ्च] १ सम्यक् प्रवृत्ति-वाना (भग २, ५—पत्र १४०)। २ अच्छा, सुन्दर, शासन, समीचीन (सूत्र २, ५, ३१)।

समिअ वि [शमित] शान्त किया हुआ (विसे २४५८, औप, परह २, ५—पत्र १४८, सण)।

समिअ वि [श्रमित] श्रम-युक्त (भग २, ५—पत्र १४०)।

समिअ वि [समिक] सम, राग-रूप-रहित, 'समियभावे' (परह २, ५—पत्र १४६)।

समिअ न [साम्य] समता, रागादि का अभाव, सम-भाव (सूत्र १, १६, ५, आचा १, ८, ८, १४)।

समिअ वि [समित] प्रमाणोपेत (आया १, १—पत्र ६२, भग)।

समिअ वि [सामित] गेहूँ के आटा का बना हुआ पकाने विशेष, मण्डक (पिड २४५)।

समिअ अ [सम्यग्] अच्छी तरह (आचा, परह २, ३—पत्र १२३)।

समिआ वी अ ऊपर देखो (भग २, ५—पत्र १४०, आचा १, ५, ५, ४), 'समियाए' (आचा १, ५, ५, ४)।

समिआ वी [समिता] गेहूँ का आटा (आया १, ८—पत्र १३२, सुख ४, ५)।

समिआ वी [समिका, शमिका, शमिता] चमर आदि सब इन्द्रो को एक अभ्यन्तर परिपद् (भग ३, १० टी—पत्र २०२)।

समिइ वी [समिति] १ सम्यक् प्रवृत्ति, उपयोग पूर्वक गमन-भाषण आदि क्रिया (सम १०, शोधभा ३, उव, उप ६०२, रयण ४)। २ सभा, परिषद्, नस्थि कर देवलोगेवि देवसमिईसु ओगासो (विवे १३६ टी, तदु २५ टी)। ३ युद्ध, लडाई (रयण ४)। ४ निरन्तर मिलन (अणु ४२)।

समिइ वी [स्मृति] १ स्मरण। २ शास्त्र-विशेष, मनुस्मृति आदि (सिरि ५५)।

समिइम वि [समितिम] गेहूँ के आटे की बनी हुई मडक आहि वस्तु (पिड २०२)।

समिजग पु [समिअरु] श्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १३६)।

समिकख सक [सम् + ईक्ष्] १ आलोचना करना, गुणदोष-विचार करना। २ पर्यालोचन करना, चिन्तन करना। ३ अच्छी तरह देखना, निरीक्षण करना। समिकखए (उत्त २३, २५)। सक, समिकख (सूत्र १, ६, ४, उत्त ६, २, महा, उपप २५)।

समिकखा वी [समोक्षा] पर्यालोचना (सूत्र १, ३, ३, १४)।

समिकिखअ वि [समीक्षित] आलोचित (धर्मस ११११)।

समिच्च देखो समे।

समिच्छण न [समीक्षण] समीक्षा (भवि)।

समिच्छिय देखो समिकिखअ (भवि)।

समिज्झा अक [सम् + झ्] चारो तरफ से चमकना। समिज्झाइ (हे २, २८)। वक्क समिज्झन्त (कुमा ३, ४)।

समिता देखो समिआ = समिका (ठा ३, २—पत्र १२७, भग ३, १०—पत्र ३०२)।

समिद्ध वि [समुद्ध] १ अतिशय संपत्तिवाला (औप, आया १, १ टी—पत्र १)। २ वृद्ध, बढ़ा हुआ (प्रासु १३)।

समिद्धि वी [समृद्धि] १ अतिशय संपत्ति। २ वृद्धि (हे १, ४४, पड, कुमा, स्वप्न ६५, प्रासु १२८)। ल वि [ल] समृद्धिवाला (सुर १, ४६)।

समिर पु [समिर] पवन, वायु (सम्मत्त १५६)।

समिरिईअ } देखो स-मिरिईअ = समरी-
समिरीय } चिक।

समिला वी [शमिला, सम्या] युग-कालक, गाडी की घोसरी मे दोनो और डाला जाता लकडी का खीला (उप १३८, सुपा २५८)।

समिल देखो समिल्ल। समिल्लइ (षड्)।

समिहा वी [समिध्] काष्ठ, लकडी (अत ११, पउम ११, ७६, पिड ४४०)।

समी वी [शमी] १ वृक्ष विशेष, छोकर का पेड (सूत्र १, २, २, १६ टी, उप १०३१ टी, वजा १५०)। २ शिवा, छिमी, फली (पात्र)। खल्लय न [दे] छोकर की पत्ती, शमी वृक्ष का पत्र-पुट (सूत्र १, २, २, १६ टी, वृह १)।

समीअ देखो समीव (नाट—मालवि ५)।

समीअय वि [समीकृत] समान किया हुआ, 'ज किंचि अणण तात तपि समीकत' (सूत्र १, ३, २, ८, गउड)।

समीचीण वि [समीचीन] साधु, सुन्दर, शोभन (नाट—चैत ४७)।

समीर सक [सम् + ईरय्] प्रेरणा करना। समीरण (आचा १, ८, ८, १७)।

समीर पु [समीर] पवन, वायु (पात्र, गउड)।

समीरण पु [समीरण] ऊपर देखो (गउड)।

समाल देखो समील। समीलइ (षड्)।

समीव वि [समीप] निकट, पास (पउम ६६, ८, महा)।

समीह सक [सम् + ईह्] चाहता, वाछा करना। वक्क समीहमाण (उप ३२० टी)।

समीहा वी [समीहा] इच्छा, वाछा (उप १०३१ टी)।

सवत्तय वि [सवर्तक] १ अपवर्तन कर्ता ।
२ पु बलदेव । ३ बडवानल (हे २, ३०,
प्राप्र) ।

सवत्तुवत्त पुं [सवत्तोद्धर्त] उलट-पुलट (स
१७४, २५८) ।

सवद्धण न [सवर्धन] १ वृद्धि, बढ़ाव । २
वि वृद्धि करनेवाला (भवि, स ७२७) ।

संवय सक [स + वद्] १ बोलना,
कहना । २ प्रमाणित करना, सत्य साबित
करना । सवयद, सवपण्जा (कुप्र १८७,
सुप्र १, १४, २०) । वक्क. सवयत (धर्मस
८८३) ।

सवय वि [सवृत्] आवृत्त, आच्छादित
(कुप्र ३६) ।

सवर सक [स + वृ] १ निरोध करना,
रोकना । २ कर्म को रोकना । ३ बंध करना ।
४ ढकना । ५ गोपन करना । सवरइ,
सवरसि, सवरेमि (भग, भवि, सण, हास्य
१३०, पव २३६ टी), सवरेहि (कुप्र ३११) ।
वक्क. सवरेमाण (भग) । सक्क. सवरेवि
(महा) ।

संवर पुं [सवर] १ कर्म-निरोध, नूतन कर्म-
बन्ध का अटकाव (भग, परह १, १, नव
१) । २ भारतवर्ष में होनेवाले अठारहवें
जिनदेव (पव ४६, सम १५४) । ३ चौथे
जिनदेव के पिता का नाम (सम १५०) ।
४ एक जैन मुनि (पउम २०, २०) । ५
पशु विशेष (कुप्र १०४) । ६ दैत्य-विशेष ।
७ मत्स्य की एक जाति (हे १, १७७) ।

सवरण न [सवरण] १ निरोध, अटकाव
(पचा १, ४४), 'आसवदाराण सवरण'
(श्रु ७) । २ गोपन (गा १६६, सुपा ३०१) ।
३ साकोवन, समेटन (गा २७०) । ४
प्रत्याख्यान, परित्याग (श्रीष ३७, विसे २६१२,
श्रावक ३३३) । ५ श्रावक के बारह ब्रतों
का श्रमीकार (सम्मत्त १५२) । ६ अन्नशन,
आहार परित्याग (उप पृ १७६) । ७
विवाह, लग्न, शादी (पउम ४६, २३) ।
८ वि. रोकनेवाला (पव १२३) ।

सवरिअ वि [सवृत्] १ आनेविद, आराधित,
'एवमिण सवरस्स दार सम्मं सवरिय होइ'

(परह २, १—पत्र १०१) । २ साकोचित
(दे ८, १२) । ३ आच्छादित (वृह ३) ।

सवलण न [सवलन] मिनन (गडड, नाट-
मालती ५७) ।

सवल्लिअ वि [सवल्लित] १ व्याप्त (गा ७५,
सुर ६, ७६, ८ ४३, वकिम ६०) । २
युक्त, मिलित, मिश्रित (सुर ३, ७८, धर्मवि
१३६), 'सरसा वि दुमा दावाणलेण डक्कति
सुक्खसवल्लिया' (वजा १४) ।

सववहार युं [सव्यवहार] व्यवहार (विसे
१८५३) ।

सवस अक [स + वस्] १ साथ मे
रहना । २ रहना, वास करना । ३ समोग
करना । सवसइ (कस) । वक्क. सवसमाण
(ठा ५, २—३१२, ३१४, गच्छ १, ३) ।
वक्क. सवसित्ता (गच्छ १, २) । हेक्क
सवसित्तए (ठा २, १—पत्र ५६) । कृ
सवसेयव्व (उप पृ १६) ।

सवह सक [स + वह] १ वहन करना ।
२ अक सज्ज होना, तय्यार होना । वक्क
सवहमाण (सुपा ४६४, णाय्या १, १३—
पत्र १८०) । सक्क. सवहिऊण (सण) ।

सवहण न [सवहन] १, ढोना, वहन करना ।
(राज) । २ वि. वहन करनेवाला (आचा
२, ४, २, ३, दस ७, २५) ।

सवहणिय वि [सावहणिक] देखो सवाहणिय
(उवा) ।

सवहिअ वि [समृद्ध] जो सज्ज हुआ हो
वह, तय्यार बना हुआ, 'सामिअ पुरिअपोअ
अन्हे सव्वेवि सवहिया' (सिदि ५६६,
सम्मत्त १५७) ।

सवाइ वि [सवादिन्] प्रमाणित करनेवाला,
सबूत देनेवाला (सुर १२, १७६) ।

सवाइय वि [सवादिन्] १ खबर दिया
हुआ, जताया हुआ (स २६६) । २ प्रमाणित
(स ३१५) ।

सवाद पु [सवाद] १ पूर्वज्ञान को सत्य
सवाय साबित करनेवाला ज्ञान, सबूत,
प्रमाण (धर्मस १४८, स ३२६, उप ७२८
टी) । २ विवाद, वाक् कलह,

"इय जाओ सवाओ तेसि पुत्तस्स काएणे रओ।
त कीरेणं भणियं रायसमीहे समाण्यं।"
(सुपा ३६०) ।

सवाय सक [स + वाद्य] खबर देना,
समाचार कहना । सवाएमि, सवाएहि (स
२६१, २६६) ।

सवायय पु [दे] १ नकुल, न्योला । २ श्ले
पत्नी (दे ८, ४८) ।

सवास सक [स + वासय] साथ में रहने
देना । हेक्क सवासए (पचा १०, ४८ टी) ।

सवास पुं [सवास] १ सहवास, साथ में
निवास (उव २२३, ठा ४, १—पत्र १६५,
श्रीष ६७, हित १७, पचा ६, १३) । २
मैथुन के लिए स्त्री के साथ निवास (ठा ५,
१—पत्र १६३) ।

सवासिय (अप) वि [समाश्रासित] जिसको
आश्रासन दिया गया हो वह, 'ति बर्याणं
षणवइ सवासिउ' (भवि) ।

सवाइ सक [स + वाहय] १ वह
करना । २ तय्यारो करना । अण मर्दान-
चप्पी करना । सवाइइ (भवि) । कवक्क.
सवाहिज्जत (सुपा २००, ३४६) ।

सवाह पु [सवाह] १ दुर्ग विशेष, जहाँ
कृषक-श्रीमो धान्य आदि को रक्षा के विप
ले जाकर रखते हैं (ठा २, ४—पत्र ६६,
परह १, ४—पत्र ६८, श्रौप, कस) । २
लग्न, विवाह (सुपा २५५) । ३ गिरिशिखरस्य
ग्राम ।

सवाहण न [सवाहन] १ अण-मर्दान, चप्पी
(परह २, ४—पत्र १३१, सुर ४, २४५,
गा ४६४) । २ सवाहन, विनाश (गा
४६४) । ३ पु एक राजा का नाम (उव) ।
४ वि वहन करनेवाला (आचा ३, ५,
२, १०) ।

सवाहणा वी [सवाहना] ऊपर देखो (कण
श्रौप) ।

सवाहणिय वि [सावाहणिक] मार-बल
करने के काम में आता वाहन (उवा) ।

सवाहय वि [सवाहक] चप्पी करनेवाला
(चार ३६) ।

सवाहिअ वि [समाहित] जिसका अण-
मर्दान—चप्पी किया गया हो वह (कण

समुज्जाय वि [समुद्यात्] १ निर्गत (विसे २६०६) । २ ऊँचा गया हुआ (कम्प) ।

समुज्जोअ अक [समुद् + युत्] चमकना, प्रकाशना । वक्क समुज्जोयत (पउम ११६, १७) ।

समुज्जोअ पु [समुद्द्योत्] प्रकाश, दीप्ति (सुपा ४०, महा) ।

समुज्जोवय सक [समुद् + द्योतय] प्रकाशित करना । वक्क समुज्जोवयत (स ३४०) ।

समुज्जक सक [सम् + उज्ज्] त्याग करना । सक समुज्जिऊण (वि ८७) ।

समुट्ठा अक [समुन् + स्था] १ उठना । २ प्रयत्न करना । ३ ग्रहण करना । ४ उत्पन्न होना । सक समुट्ठिऊण (सण), समुट्ठाए, समुट्ठिऊण (आचा १, २, २, १, १, २, ६, १, सण) ।

समुट्ठाइ वि [समुत्थायिन्] सम्यग् यत्न करनेवाला (आचा) ।

समुट्ठाइअ देखो समुट्ठिअ (स १२५) ।

समुट्ठाण न [समुपस्थान] फिर से वास करना । सुय न [श्रुत्] जैन शास्त्र विशेष (एदि २०२) ।

समुट्ठाण न [समुत्थान] १ सम्यग् उत्थान । २ निमित्त, कारण (राज) । देखो समुत्थान ।

समुट्ठिअ वि [समुत्थित] १ सम्यक् प्रयत्न-शील (सूय १, १४, २२) । २ उपस्थित । ३ प्राप्त (सूय १, ३, २, ६) । ४ उठा हुआ, जो खडा हुआ हो वह (सुर १, ६६) ।

५ अनुष्ठित, विहित (सूय १, २, २, ३१) । ६ उत्पन्न (एयाया १, ६—पत्र १५६) । ७ ध्यायित (राज) ।

समुट्ठुण वि [समुट्ठुण] उडा हुआ (वज्जा ६२, मोह ६३) ।

समुण्णइय देखो समुत्तइय (राज) ।

समुत्त न [समुत्त] १ गोत्र-विशेष । २ पुलो उस गोत्र में उत्पन्न, 'समुत्ता (ता)' (ठा ७—पत्र ३६०) । देखो समुत्त ।

समुत्तइय वि [दे] गवित (पिड ४६५) ।

समुत्तर सक [समुत् + तृ] १ पार जाना । २ अक नीचे उतरना । ३ अवतीर्ण

११०

होना । समुत्तरइ (गउड ६४१, १०६६) । सक समुत्तरेवि (अप) (भवि) ।

समुत्ताराविय वि [समुत्तारित] १ पार पहुँचाया हुआ । २ कूप आदि से बाहर निकाला हुआ (स १०२) ।

समुत्तास सक [समुन् + त्रासय] अति-शय भय उपजाना । समुत्तासेदि (शौ) (नाट—मालती ११६) ।

समुत्तिण्ण वि [समवतीर्ण] अवतीर्ण (पउम १०६, ४२) ।

समुत्तुग वि [समुत्तुङ्ग] अति ऊँचा (भवि) । समुत्तुण वि [दे] गवित (गउड) ।

समुत्थ वि [समुत्थ] उत्पन्न (स ४८, ठा ४, ४ टी—पत्र २८३, सुर २, २२५, सुपा ४७०) ।

समुत्थइउ देखो समुत्थय = समुत् + स्यगय । समुत्थण न [समुत्थान] उत्पत्ति (एयाया १, ६—पत्र १५७) ।

समुत्थय सक [समुन् + स्थगय] आच्छादन करना, ढकना । हेक्क समुत्थइउ (गा ३६४ अ, पि ३०६) ।

समुत्थय वि [समवस्तुत्] आच्छादित (कुप्र १६२) ।

समुत्थल्ल वि [समुत्थल्लिन] उछला हुआ (स ५७८) ।

समुत्थान न [समुत्थान] निमित्त, कारण (विसे २८२८) । देखो समुट्ठाण ।

समुत्थिय देखो समुट्ठिअ (भवि) ।

समुदय पु [समुदय] १ समुदाय, संहति, समूह (औप, भग, उवर १८६) । २ समुत्तति, अभ्युदय (कुप्र २२) ।

समुदाआर } देखो समुआचार (स्वप्न समुदाआर } ४५, नाट—शकु ७३, औप, स ५६५) ।

समुदाण न [समुदान] १ भिक्षा (औप) । २ भिक्षा-समूह (भग) । ३ क्रिया विशेष, प्रयोग-गृहीत कर्मों को प्रकृति-स्थित्यादि रूप से व्यवस्थित करनेवाली क्रिया (सूअनि १६६) । ४ समुदाय (आव ४) । °चर वि [°चर] भिक्षा की खोज करनेवाला (परह २, १—पत्र १००) ।

समुदाग सक [समुदानय] भिक्षा के लिए भ्रमण करना । सक समुदाणेऊण (परह २, १—पत्र १०१) ।

समुदाणिअ देखो सामुदाणिय (औप, भग ७, १—पत्र २६३) ।

समुदाणिणा बी [सामुदानिकी] क्रिया-विशेष, समुदान-क्रिया (सूअनि १६८) ।

समुदाग पुं [समुदाय] समूह (अणु २७० टी, विसे ६२१) ।

समुदाहिय वि [समुदाहृत] प्रतिपादित, कथित (उन ३६, २१) ।

समुदिअ देखो समुइअ = समुदित (सूअनि १२१ टी, सुर ७, ५६) ।

समुदिण्ण देखो समुइण (राज) ।

समुदीर सक [समुद् + ईरय] १ प्रेरणा करना । २ कर्मों को खींच कर उदय में लाना, उदीरणा करना । वक्क समुदी [°दी] रेमाण (एयाया १, १७—पत्र २२६) । सक समुदीरिऊण (सम्यक्त्वो ५) ।

समुद् पु [समुद्] १ सागर, जलवि (पात्र, एयाया १, ८—पत्र १३३, भग, से १, २१, हे २, ८०, कम्प, प्रासू ६०) । २ अन्वकवृष्णि का ज्येष्ठ पुत्र (अत ३) । ३ आठवें बलदेव और वासुदेव के पूर्वजन्म के धर्म-गुरु (सम १५३) । ४ वेलन्वर नगर का एक राजा (पउम ५४, ३६) । ५ शारिङ्ग्य मुनि के शिष्य एक जैन मुनि (एदि ४६) । ६ वि धुदा-सहित (से १, २१) । °दत्त पु [°दत्त] १ चौथे वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३) । २ एक मच्छीमार का नाम (विपा १, ८—पत्र ८२) । °दत्ता बी [°दत्ता] १ हरिवेण वासुदेव की एक पत्नी (महा ४४) । २ समुद्रदत्तमच्छीमार की भार्या (विपा १, ८) । °लिक्खा बी [°लिक्खा] द्वीन्द्रिय जतु की एक जाति (परह १—पत्र ४४) । °विजय पुं [°विजय] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का पिता (सम १५२) । २ भगवान् अरिष्टनेमि का पिता (सम १५१, कम्प, अत) । °सुआ बी [°सुता] लक्ष्मी (समु १५२) । देखो समुद्र ।

संवेष्टिअ वि [सवेष्टित] लपेटा हुआ (गा ६४६)।

सवेह पुं [सवेध] सयोग, 'अन्नन्नवरणसवे-हरमणिज्ज गघव्व' (महा), 'अन्नन्नवन्नसवे-हमणहर मोहण पसूएणि तग्गीय जोऊए' (धर्मवि ६५)।

सस अक [सस] विसकना, गिरना। ससइ (हे ४, १९७, षड्)।

संस सक [संस] ? कहना। २ प्रशसा करना। ससइ (चिद्वय ७३७, भवि), ससति (सिरि १८७)। क्क. ससणिज्ज (पउम ११८, ११४)।

सस वि [साश] शंश-युक्त, सावयव (धर्मसं ७०६)।

ससइ वि [सशयिन्] सशय-कर्ता, शका-शील (विसे १५५७, सुर १३, ७, सुपा १४७)।

ससइअ वि [सशयित] सशयवाला, सदिग्ध (पात्र; विसे १५५७, सम १०६, सुर १२, १०८)।

संसइअ न [सासयिक] मिथ्यात्व-विशेष (पत्र ४, २, आ ६, सबोध ५२, कम्म ४, ५१)।

ससग्गा पुत्री [ससर्ग] सबन्ध, सग, सोहवत् (सुपा ३५८, प्रासू ३१, गउड)। स्त्री 'ग्गी (याया १, १ टी—पत्र १७१, प्रासू ३३, सुपा १७१),

'एएण चिय नेच्छति

साहवो सज्जणेहि ससर्गि।

जम्हा विमोगविहुरिय-

हिययस्स, न सोसव अन्त'

(सुर २, २१६)।

ससज्ज अक [स + सज्ज] सबन्ध करना, सासर्ग करना। ससज्जति (सम्मत्त २२०)।

ससज्जिम वि [ससक्तिमत्] बीच में गिरे हुए जीवों से युक्त (पिड ५३८)।

ससट्ठ वि [ससट्ठ] ? खरएट्ट, विलिप्त। २ न खरएट्ट हाथ से दी जाती भिक्षा आदि (श्रौप)। देखो ससिट्ठ।

ससण न [ससण] ? कथन। २ प्रशंसा। ३ आस्वादन, 'सुत्तविहीएण पुएण सुयमपक-

फलससणसरिच्छ' (उप ६४८ टी, उवकु १६)।

संसणिज्ज देखो सस = शस्।

संसत्त वि [संसत्त] १ ससर्ग-युक्त, सबद्ध (याया १, ५—पत्र १११, श्रौप, सं ६, उत्त २, १६)। २ श्वापद-जन्तु-विशेष (कप्प)।

ससत्ति स्त्री [ससक्ति] सासर्ग (सम्मत्त १५६)।

ससइ पु [सशब्द] शब्द, आवाज (सुर २, ११०)।

ससप्पग वि [ससर्पक] ? चलने-फिरने-वाला। २ पु चीटी आदि प्राणी (आचा १, ८, ८, ६)।

ससपिअ न [दे ससपित] कूद कर चलना (दे ८, १५)।

ससमण न [सशमन] उपशम; शान्ति (पिड ४५६)।

ससय पुं [सशय] सदेह, शका (हे १, ३०, भग, कुमा, अभि ११०, महा; भवि)।

ससया स्त्री [ससत्] परिपत्, सभा (उत्त १, ४७)।

ससर सक [स + सू] परिभ्रमण करना। वक्क ससरत्त, ससरमाण (प्रवि १, वै ८८, सबोध ११, अच्चु ६७)।

ससरण न [सस्मरण] स्मृति, याद (श्रु ७)।

ससवण न [सप्रवण] श्रवण, सुनना (सुर १ २४२, रंभा)।

ससइ सक [स + सह] सहन करना। सासइ (धर्मस ६८२)।

ससा स्त्री [शसा] प्रशसा, श्लाघा (पत्र ७६ टी, भग)।

ससाअ वि [दे] ? आह्व। २ वर्णित। ३ पीत। ४ उद्विग्न (पडू)।

ससार पु [ससार] ? नरक आदि गति में परिभ्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर में गमन (आचा; ठा ४, १—पत्र १६८, ४, २—पत्र २१६, दसनि ४, ४६, उत्त २६, १, उव, गउड, जी ४४)। २ जगत्, विश्व (उव, कुमा, गउड, पउम १०३, १४१)। वत्त वि [वत्त] समाश्वाला, सासार-स्थित जीव, प्राणी (पउम २, ६२)।

ससारि } वि [ससारिन्] नरक आदि ससारिण } योनि में परिभ्रमण करनेवाला

जीव (जी २), 'ससारिणस्स ज पुण जीवस्स सुह तु फारिसमादीए' (पउम १०२, १७५)। ससारिय वि [ससारि] ऊपर देखो (ष ४०२, उव)।

ससारिय वि [ससारिक] ससार से सम्बन्ध रखनेवाला (पउम १०६, ४३, उव १४२ टी, स १७६, सिक्खा ७१, सए, काल)।

ससारिय वि [ससारित] एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थापित, 'ससारियामु वलयवाहणु' (याया १, ८—पत्र १३३)।

ससाहण स्त्रीन [दे] अनुगमन (दे ८, १६, दसनि ३८८)। स्त्री णा (वव १)।

ससाहण न [सहयन] कथन (सुपा ४१५)।

ससाहिय वि [ससावित] सिद्ध किया हुआ (सुपा ३६७)।

ससि वि [शसिन्] कहनेवाला (गउड)।

ससिअ वि [शसित] ? श्लाघित (सुर १३, ६८)। २ कथित (उप पु १६१)।

ससिअ वि [सश्रित] आश्रित (विपा १, ३—पत्र ३८, पएह १, ४—पत्र ७२, श्रौप ४८, अणु १५१)।

ससिच सक [स + सिच] ? पुरा, भरना। २ बढ़ाना। ३ सिचन करना। कक्क ससिच्चमाण (आचा, पि ५४२)। सक्क-ससिचियाण (आचा १, २, ३, ४)।

ससिउभ अक [स + सिउ] अच्ची तरह सिद्ध होना। सासिउभति (स ७६७)।

ससिट्ठ देखो ससइ (भग)। 'कल्पिअ वि [कल्पिक] खरएट्ट हाथ अथवा भाजन से दी जाती भिक्षा को ही ग्रहण करने के नियमवाला मुनि (पएह २, १—पत्र १००)।

ससित्त वि [ससित्त] सोचा हुआ (सुर ४, १४, महा, हे ४, ३६५)।

ससिद्धिअ वि [सासिद्धिक] स्वभाव सिद्ध (हे १, ७०)।

ससिलेस देखो ससेस (राज)।

ससिलेसिय देखो—ससेसिय (राज)।

ससीय सक [स + सिन्] सीमा, विनर्दि करना। ससीविज्जा (आचा २, ५, १, १)।

समुल्लस अक [समुत् + लस्] उल्लसित होना, विकसना। समुल्लसइ (नाट—विक्र, ७१)। वक्र समुल्लसन (कप्प, सुर २, ८५)।

समुल्लसिय वि [समुल्लसित] उल्लास-प्राप्त (सण)।

समुल्लाळिग वि [समुल्लाळित] उल्लाळा हुआ (णाय १, १८—पत्र २३७)।

समुल्लाव पु [समुल्लाव] आलाप, समाषण (विपा १, ७—पत्र ७७, महा, णाय १, १६—पत्र १६६)।

समुल्लास पु [समुल्लास] विकास (गउड)।

समुवइद्ध वि [समुपविष्ट] बैठा हुआ (उ २८८)।

समुवउत्त वि [समुपयुक्त] उपयोग युक्त, सावधान (जीवस ३६३)।

समुवगय वि [समुपगत] समीप आया हुआ (वन ४)।

समुवज्जिय वि [समुपार्जित] उपाजित, पैदा किया हुआ (सुपा १००, सण)।

समुपरिथिय वि [समुपरिस्थित] हाजिर, उपस्थित (उप ४३५)।

समुवयत देखो समुवे।

समुवविट्ट वि [समुपविष्ट] बैठा हुआ (राय ७५)।

समुवसपन्न वि [समुपसवन्न] समीप मे समागत (धर्म ३)।

समुवहसिअ वि [समुपहसित] जिसका खूब उपहास किया गया हो वह (सण)।

समुवागय वि [समुपागत] समीप मे प्रागत (णाय १, १६—पत्र १६६, सण)।

समुवे सक [समुपा + इ] १ पास मे आना। २ प्राप्त करना। समुवेइ, समुवेँति (यति ४२, पि ४६३)। वक्र समुवयत (स ३७०)।

समुवेम्प } सक [समुत्प + ईक्ष्] १
समुवेद } निरीक्षण करना। २ व्यवहार करना, काम में लाना। वक्र समुवेकस्वमाण, समुवेहमाण (णाय १, १—पत्र ११, माचा १, ५, २, ३)।

समुवत्त वि [समुद्वृत्त] ऊँचा किया हुआ (से ११, ५१)।

समुव्वत्तिय वि [समुद्वर्तित] घुमाया हुआ, फिराया हुआ (सुर १३, ४३)।

समुव्वह सक [समुद् + वह्] १ धारण करना। २ ढोना। समुव्वहइ (भवि, सण)। वक्र. समुव्वहत (से ६, २, नाट—रत्ना ८३)।

समुव्वहण न [समुद्वहन] सम्यग् वहन—ढोना (उव)।

समुव्विगग वि [समुद्विगन] अत्यन्त उद्वेग-वाला (गा ४६२)।

समुव्वूढ वि [समुद्व्यूढ] १ विवाहित (उप पृ १२७)। २ उत्तानित, ऊँचा किया हुआ (से ११, ६०)।

समुव्वेळ वि [समुद्वेळित] अत्यन्त कँपाया हुआ, संचालित, 'गयजूहसमायङ्गियविसमस-मुव्वेळकमलसघाय' (पउम ६४, ५२)।

समुसरण देखो समोसरण (पिंड २)।

समुस्सय पु [समुच्छ्रय] १ ऊँचाई, ऊर्ध्वता (सूत्र २, ४, ७)। २ उन्नति, उत्तमता (सूत्र १, १५, ७)। ३ कर्मोंका उपचय (आचा)। ४ सघात, समूह, राशि, ढग (दस ६, १७, अणु २०)।

समुस्सविय वि [समुच्छ्रयित] ऊँचा किया हुआ (पउम ४०, ६)।

समुस्ससिय वि [समुच्छ्रवसित] १ उल्लास-प्राप्त, 'समुस्ससियरोमकूवा' (कप्प)। २ उच्छ्रवास-प्राप्त (पउम ६४, ३८)। देखो समुस्ससिअ।

समुस्सिअ वि [समुच्छ्रित] ऊर्ध्व-स्थित, ऊँचा रहा हुआ (सूत्र १, ५, १, १५, पि ६४)।

समुस्सिणा सक [समुत् + श्रु] १ निर्माण करना, बनाना। २ सस्कार करना, संवारना जोए मन्दिर आदि को ठीक करना। समुस्सि-णसि, समुस्सिणामि (आचा १.८, २, १.२)।

समुस्सुग } देखो समुसुअ (द्र ४८, महा)।
समुस्सुय }

समुह देखो समुह (हे १, २६, गा ६५६, कुमा, हेका ५१, महा, पात्र)।

समुहय वि [समुद्वत] समुदघात-प्राप्त (श्रावक ६८)।

समुहि देखो स-मुहि = श्व-मुहि।

समूसण न [समूषण] त्रिकटुक—सूँठ, पीपल तथा मरिच या मिरचा (उत्तनि ३)।

समूसवय देखो समुस्सविय (पएह १, ३—पत्र ४५)।

समूसस अक [समुत् + श्वस्] १ ऊँचा जाना। २ उल्लसित होना। ३ ऊर्ध्व श्वास लेना। समूससति (पि १४३)। वक्र समू-ससत, समूससमाण (गा ६०४, गउड, से ११, १३२)।

समूससिअ न [समुच्छ्रवसित] १ नि श्वास (से ११, ५६)। २ देखो समुस्ससिय (णाय १, १—पत्र १३, कप्प, गउड)।

समूससिअ देखो समुस्सिअ (भग, औप, सूत्र १, ५, १, ११ टी. पएह १, ३—पत्र ४५)।

समूसुअ वि [समुत्सुक] अति उत्कठित (सुपा ४७७, नाट—विक्र ६२)।

समूह पुन [समूह] समुदाय, राशि, सघात, 'मतीहि य उवसमिय भुयगमाण समूह व' (पउम १०६, १५, ओष ४०७, गउड, भवि)।

समूह (अन) देखो समुह (भवि)।

समे सक [समा + इ] १ आगमन करना, आना, समुख आना। २ जानना। ३ प्राप्त करना। ४ अक सहत होना, इकट्टा होना। समेइ, समेति (भवि, वित्से २२६६)। वक्र. समेमाण (आचा १, ८, १, २)। सक समिच्च, समेच्च (सूत्र १, १२, ११, पि ५६१, आचा १, ६, १, १६, पच ३, ४५)।

समेअ } वि [समेत] १ समागत, समायात,
समेत } 'सीलवड परिणोउ गिह समेओ महिङ्गीए' (आ १६)। २ युक्त, सहित, 'तेहि समेतो अहय वयामि जा कित्तियपि भुभाग' (सुर १, १६-३, ८८, सुपा २५६, महा)।

समेअ देखो स-मेअ = स-मयाद।

समोअर अक [समव + त्] १ समाना, समावेश होना, अन्तर्भाव होना। २ नीचे

पत्नी, सत्यभामा (कुप्र २५८) । ३ इन्द्राणी (चउपमन० श्रुषम-चरित) । ० भोस वि [सृषा] मिश्र-भाषा, सत्य से मिला हुआ झूठ वचन, 'सचामोसाणिए भासइ (सम ५०) । सञ्चित्त देखो स-ञ्चित्त = स-चित्त । सञ्चिल्लय वि [दे. सत्य] मच्चा, यथार्थ (दे ८, १४) । सञ्चीसय पुं [दे सञ्चीसक] वाद्य-विशेष (पउम १०२, १२३) । देखो वट्टीसक । सञ्चेविअ वि [दे] रचित, निर्मित (दे ८, १८) । सञ्छ वि [स्यच्छ] अति निर्मल (सुपा ३०) । सञ्छद वि [स्यच्छद] १ स्वाधीन, स्व-वशा (उप ३३६ टी. सुर १४, ८५) । २ न स्वेच्छानुसार (णाय १, ८—पत्र १५२, औप, अमि ४६, प्रासू १७) । ० गामि वि [गामिन्] इच्छानुसार गमन करनेवाला, स्वैरी । स्त्री. ० णी (सुपा २३५) । ० चारि, ० यारि वि [चारिन्] स्वच्छन्दी, इच्छानुसार विहरण करनेवाला, स्वैरी । स्त्री ० णी (स ३६, आ १६, गच्छ १, १०) । सञ्छर सक [हृश] देखना (सलि ३६) । सञ्छह वि [दे सञ्छाय] सदृश, समान, तुल्य (दे ८, ६, गा ५, ४५, ३०८, ५३३, ५८०, ६८१, ७२१, सुर ३, २४६, धर्मवि ५७) । सञ्छाय वि [सञ्छाय] १ समान छाया-वाला, तुल्य (गउड, कुप्र २३) । २ अञ्छी कान्तिवाला (कुमा) । ३ सुन्दर छायावाला । ४ कान्ति-युक्त । ५ छाया युक्त (हे १, २४६) । सञ्छह वि [सञ्छाय] जिसकी छाही सुन्दर हो वह । २ छाही वाला । ३ समान छाया-वाला, तुल्य, सदृश (हे १, २४६) । सञ्छत्ता स्त्री [सञ्छत्ता] वनस्पति-विशेष (सूप्र २, ३, १६) । सञ्जण देखो स-जण = स्व-जन । सजिय देखो सञ्जीव (सुर १२, २१०) । सजुत्त देखो सजुत्त (पिण) । सजोइ देखो स-जोइ = स-ज्योतिष । सजोगि वि [सजोगिन्] १ मन आदि का व्यापारवाला । २ पुन तेरहवा गुण-स्थानक (पि ४११, सम २६, कम्म २, २, २०) ।

सजोगिय देखो स-जोगिय = स-ज्योतिक । सज्ज अक [सज्ज] १ आसक्ति करना । २ सक. आलिगन करना । सज्जइ (उत्त २५, २०), सज्जह (णाय १, ८—पत्र १४८) । वक्क सज्जमाण (सूप्र १, ७, २७, वसव २, १०, उत्त १४, ६, उवर १२) । क सज्जियव्व (परह २, ५—पत्र १४६) । सज्ज अक [सज्ज] १ तय्यार होना । २ सक. तय्यार करना, सजाना । सज्जेइ, सज्जेति (कुमा, णाय १, ८—पत्र १३२) । कम्म सञ्जीअति (कम्म) । कवक्क सज्जिज्जत (कम्म) । सक. सज्जिऊण, सज्जेउ (स ६४, महा) । क सज्जियव्व, सज्जेयव्व (सत्त ४०, स ७०) । प्रयो, सक. सज्जावेऊण (महा) । सज्ज पु [सज्ज] वृक्ष-विशेष (णाय १, १—पत्र २५, विसे २६८२, स १११, कुमा) । सज्ज पु [पडज्ज] स्वर-विशेष (कुमा) । सज्ज वि [सज्ज] तय्यार, प्रणुण (णाय १, ८—पत्र १४६, सुपा १२२, १६७, हेका ४६, पिण) । सज्ज } अ [सद्यस] तुरन्त, जल्दी, शीघ्र, सज्ज } 'सज्जवायण से कम्मणजोग पचजामि' (स १०८, सुख ८, १३, गा ५६७ अ, कस) । सज्जभच पु [स्य्यम्भय] एक प्रसिद्ध जैन महर्षि (सार्ध १२) । सज्जण देखो स-ज्जण = सज्जन । सज्जा देखो सेज्जा (राज) । सज्जिअ वि [सज्जित] सजाया हुआ, तय्यार किया हुआ (औप, कुपा, महा) । सज्जिअ वि [सज्जित] बनाया हुआ (दे १, १३८) । सज्जिअ पुं [दे] १ नापित, नाई । २ रजक, धोबी । ३ वि* पुरस्कृत, आगे किया हुआ । ४ दीर्घ, लम्बा (दे ८, ४७) । सज्जिआ स्त्री [सज्जिआ] क्षार-विशेष, सजी क्षार 'वत्थ सज्जियाखारेण अणुनिपति' (णाय १, ५—पत्र १०६) । सज्जीअ } देखो स-ज्जीअ = स-जीव । सज्जीव }

सज्जीह्व अक [सज्जी + भू] सज्ज हेतु तय्यार होना । सज्जीह्वेइ (आ १४) । सज्जो देखो सज्ज = सद्यस (सुपा ३६७) । सज्जोक्क वि [दे] प्रत्यग्र, वृत्तन, ताजा (हे ८, ३) । सज्ज वि [साध्य] १ साधनीय, सिद्ध करने योग्य । २ वश में करने योग्य, 'बलिओ हु इमो सत्तू ताव य सज्जो न पुरिसणारस' (सुर ८, २६, सा २४) । ३ तर्कशास्त्र प्रसिद्ध अनुमेय पदार्थ, जैसे घूम से ज्ञातव्य बलि (पत्रा १४, ३५) । ४ पुं साध्यवाला, पत्त (विसे १०७७) । ५ देवगण विशेष । ६ योग-विशेष । ७ मन्त्र-विशेष (हे २, २८) । सज्ज पु [सह्य] १ पर्वत विशेष (स ६७७) । २ वि सहन-योग्य (हे २, २६, १२४) । सज्जतिय पु [दे] श्रद्धाचार्य (राज) । सज्जतिया स्त्री [दे] अगिनी, बहिन (राज) । सज्जतेवासि पु [स्वाध्यायान्तेवासिन्] विद्या-शिष्य (सुख २, १५) । सज्जमाण वि [साध्यमाण] जिसकी साधना की जाती हो वह (उपण ४०) । सज्जव्व सक [दे] ठीक करना, तदुस्त करना । सज्जवेहि, सज्जवेमि (सुर ३, १५) । सज्जस न [साध्यस] मय, डर (हे २, २६, कुमा) । सज्जमाइय वि [स्वाध्यायिक] १ जिससे पठन आदि स्वाध्याय हो सके ऐसा शास्त्रक रोग, काल आदि (आ १०—पत्र ४७५) । २ न स्वाध्याय, शास्त्र-पठन आदि (पव २६८, एदि २०७ टी) । सज्जमाय पु [स्वाध्याय] योजन अथवा शास्त्र का पठन, आचरन आदि (औप, हे २, २६, कुमा, नव २६) । सज्जमारय वि [साह्यराज] सहायन के राज से सम्बन्ध रखनेवाला, सहायि क राजा न (पउम ५५, १७) । सज्जिमलग पु [दे] ज्ञाता, नाई (उत्त २३५, ३७७, पिड ३२४) । सज्जिमलगा स्त्री [दे] अगिनी, बहिन (पि ३१६, उप २०७) । सज्जिमलग देखो सज्जिमलग (राज) ।

सम्मद् देखो सम्मुद् = सन्मति, स्वमति (उत्त २८, १७, आचा) ।

सम्मद्ग देखो सामाद्ग (सबोध ४५) ।

सम्म अ [सम्यग्] अचञ्जी तरह (आचा, सुप्र १, १४, ११, महा) ।

सम्मद्दु छी [सन्मति] १ सगत मति । २ सुन्दर बुद्धि, विशद बुद्धि (उत्त २८, १७, सुख २८, १७, कप्प, आचा) । ३ पुं एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५२) ।

सम्मद्दु छी [स्वमति] स्वकीय बुद्धि (आचा) ।
सम्हरिअ वि [सस्मृत] अचञ्जी तरह याद किया हुआ (अन्नु ३५) ।

सय अक [शी, स्वप्] सोना, शयन करना । सयइ, सए, सएज्जा (कप्प, आचा १, ७, ८, १३, २, २, ३, २५, २६), सयति (भग १३, ६—पत्र १७) । वक्क सयमाण (आचा २, २, ३, २६) । हेक्क सइत्तए (पि ५७८) । कू देखो सयणिज्ज, सयणीअ ।

सय अक [स्वद्] पचना, जीएणं होना, माफिक आना । सयइ (आचा २, १, ११, १) ।

सय अक [स्त्] करना, टपकना । सयइ (सुप्र २, २, ५६) ।

सय सक [श्रि] सेवा करना । सयति (भग १०, ६—पत्र ६१७) ।

सय देखो स = सत्, 'वदण्णज्जो सयाए' (स ६६५) ।

सय देखो स = स्व (सुप्र १, १, २, २३, णाय १, १४—पत्र १६०, आचा, उवा, स्वप्न १६) ।

सय देखो सग = सत्तन् । हत्तरि छी [सप्तति] सतहतर, ७७ (आ २८) ।

सय अ [सदा] हमेशा, निरन्तर, 'असबुडो सय करेइ कट्ठप' (उवा) । काल न [काल] हमेशा, निरन्तर (सुपा ८५) ।

सय पुन [शत] १ सख्या-विशेष, सौ, १०० । २ सौ की सख्यावाला (उवा, उवा, गा १०१, जो २६, द ६) । ३ बहुत, भूरि, अनल्प सख्यावाला (णाय १, १—पत्र ६५) । ४ अथयन, अथ प्रकारण, प्रत्यारा-विशेष, 'विवाहपन्नतीए एकासीति महणुम्मसया

पन्नता' (सम ८८) । ०कत न [कान्त] १ रत्न-विशेष । २ वि शतकान्त रत्नो से बना हुआ (देवेन्द्र २६८) । ०कित्ति पु [कीर्ति] एक भावी जिन-देव (पव ४६), 'सत्त (१५) कित्ती' (सम १५३) । ०गुणिअ वि [गुणित] सौधुना (आ १०, सुर ३, २३२) । ०ग्घी छी [घनी] १ यन्त्र-विशेष, पाषाण-शिला-विशेष (सम १३७, अत, औप) । २ चक्की, जांता (दे ८, ५, टी) । ०ज्जल न [ज्वल] १ वरुण का विमान (देवेन्द्र २७०) । देखो सयजल । २ रत्न की एक जाति । ३ वि शतज्वल-रत्नो का बना हुआ (देवेन्द्र २६६) । ४ पुन विद्युत्प्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत का एक शिखर (इक) । ०दुवार न [द्वार] एक नगर (अत) । ०वणु पुं [वनुष्] १ ऐरवत वर्ष मे होनेवाला एक कुलकर पुरुष (सम १५३) । २ भारत वर्ष मे होनेवाला दसवाँ कुलकर पुरुष (ठा १०—पत्र ५१८) । ०पई छी [पदी] क्षुद्र जन्तु की एक जाति (आ २३) । ०पत्त देखो ०वत्त (णाय १, १—पत्र ३८) । ०पाग न [पाक] एक सौ ओषधिओ से बनता एक तरह का उत्तम तेल (णाय १, १—पत्र १६, ठा ३, १—पत्र ११७) । ०पुप्फा छी [पुष्पा] वनस्पति-विशेष, सोया का गाछ (पणण १—पत्र ३४, उत्तनि ३) । ०पोर न [पर्वन्] इक्षु, ऊल (पव १७४ टी) । ०वाहु पु [वाहु] एक राजर्षि (पउम १०, ७४) । ०भिसया, भिसा छी [भिसज्] नक्षत्र-विशेष (इक, पउम २०, ३८) । ०यम वि [तम] सौवा, १०० वाँ (पउम १००, ६८) । ०रह पु [रथ] एक कुलकर पुरुष (सम १५०) । ०रिमह पु [वृषभ] अहोरात्र का तेईसवाँ मुहूर्त (सुज १०, १३) । ०वई देखो ०पई (दे २, ६१) । ०वत्त न [पत्र] १ पत्र, कमल (पाप्र) । २ सौ पत्तीवाला कमल, पद्म-विशेष (सुपा ४६) । ३ पु पत्ति विशेष, जिसका दक्षिण दिशा मे बोलना अपशुक्त माना जाता है (पउम ७, १७) । ०साहस्स पुन [सहस्र] सख्या-विशेष, लाख (सम २, भग, सुर ३, २१, प्रासू ६, १३४) । ०साहस्सइम वि

[सहस्रतम] लाखवाँ (णाय १, ८—पत्र १३१) । ०साहस्स वि [साहस्र] १ लाख-सख्या का परिमाणवाला (णाय १, १—पत्र ३७) । २ लाख रुपया जिसका मूल्य हो वह (पव १११, दसनि ३, १३) । ०साहस्सि वि [सहस्रिन्] लखपति, लक्षाधीश (उप पृ ३१५) । ०साहस्सिय वि [साहस्रिक] देखो ०साहस्स (स ३६६, राज) । ०साहस्सी छी [सहस्री] लक्ष, लाख (पि ४४७, ४४८) । ०सिक्कर वि [शर्कर] शत खडवाला, सौ टुकडावाला (सुर ४, २२, १५३) । ०हा अ [धा] सौ प्रकार से, सौ टुकडा होँ ऐसा (सुर १४, २४२) । ०हुत्त अ [कृत्वस्] सौ बार (हे २, १५८, प्राप्र, षड्) । ०ड पु [युष्] १ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०) । २ मदिरा-विशेष (कुप्र १६०, राज) । ०णिअ, णीअ पु [नीक] एक राजा का नाम (विपा १, ५—पत्र ६०, अत, ती १०) ।

सय देखो सय = स्वय, 'सयपालणा य एत्थ' (पचा ५, ३६) ।

सय देखो सइ = सङ्ग (वि ८८) ।

सय अ [स्वयम्] आप, खुद, निज (आचा १, ६, १, ६, सुर २, १८७, भग, प्रासू ७८, अमि ५६, कुमा) । ०कड वि [कृत] खुद किया हुआ (भग) । ०गाह पुं [ग्राह] १ जबरदस्ती ग्रहण करना । २ विवाह-विशेष (से १, ३४) । ३ वि स्वय ग्रहण करने-वाला (वव १) । ०पभ पु [प्रभ] १ ज्योतिष्क ग्रह विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । २ भारतवर्ष मे अतीत उत्सर्पिणी काल मे उत्पन्न चौथा कुलकर पुरुष (सम १५०) । ३ आगामी उत्सर्पिणी काल मे भारत मे होनेवाला चौथा कुलकर पुरुष (सम १५३) । ४ आगामी उत्सर्पिणी काल मे इम भारतवर्ष मे होनेवाले चौथे जिन-देव (सम १५३) । ५ एक जैन मुनि जो भगवान् संभवनाथ के पूर्व-जन्म मे गुरु थे (पउम २०, १७) । ६ एक हार का नाम (पउम ३६, ४) । ७ मेरु पर्वत (सुज ५) । ८ नन्दीधर द्वीप के मध्य मे पश्चिम-दिशा-स्थित एक अजन गिरि (पव

सणिद्ध देखो सिणिद्ध (हे २, १०६, कुमा) ।
सणिष्पवाय पु [शानै प्रपात्] जीवो से भरो
हुई पौडलिक वस्तु-विशेष (ठा २, ४-पत्र
८६) ।

सणेह पुं [स्नेह] १ प्रेम, प्रीति (अभि २७,
कुमा) । २ घृत, तेल आदि लिप्ध रस । ३
चिकनाई, चिकनाहट (प्राप्र, हे २, १०२) ।

सण्ण देखो सन्न (से १३, ७२) ।

सण्णज्ज न [सान्णाय्य] मन्त्र आदि से
सत्कारा जाता घृत आदि (प्राह १६) ।

सण्णत्तिअ वि [दे] परितापित (दे ८, २८) ।

सण्णविअ वि [दे] १ चिन्तित । २ न
सान्णिय, मदक के लिए समीप-गमन (दे ८,
५०) ।

सण्णिअ वि [दे] आइ, गीला (दे ८, ५) ।

सण्णिअर देखो सन्निर (राज) ।

सण्णुमिअ वि [दे] १ सनिहित । २ मापित,
नापा हुआ । ३ अनुनीत, अनुनय-युक्त (दे ८,
४८) ।

सण्णुमिअ देखो सन्नुमिअ (दे ८, ४८ टी) ।

सण्णेज्ज पु [दे] यक्ष-देवता (दे ८, ६) ।

सण्ह वि [ऋद्ग] १ मछल, चिकना (कप्प,
श्रीप) । २ छोटा, बारीक (विपा १, ८-
पत्र ८३) । ३ न, लोहा (हे २, ७५, पड) ।

४ पु वृक्ष-विशेष (परण १-पत्र ३१) ।
°करणी जी [°करणी] पीसने की थिला
(भग १६, ३-पत्र ७६६) । °मच्छ पु

[°मत्स्य] मछली की एक जाति (विपा १,
८-पत्र ८३, परण १-पत्र ४७) ।

°सणिह्वा जी [°ऋक्षिगका] आठ उच्छ-
लक्षण-लक्षिका का एक नाम (इक) ।

सण्ह वि [सूद्ध] १ छोटा, बारीक (कुमा) ।
२ न कैतव, कपट । ३ भ्रष्टात्म । ४
अलकार-विशेष (हे २, ७५) । देखो सुद्धम,
सुद्धम ।

सण्हई जी [दे] इती (दे ८, ६) ।

सत्त देखो सय = शत (गा ३) । °कतु पु
[°कतु] इन्द्र (कप्प) । °गधी जी [°धी]
अज-विशेष (परण १, १-पत्र ८, वसु) ।

°दुद जी [°द्र] एक महानदी (ठा ५,
३-पत्र ३५२) । °मिसया जी [°मिपज्]

नक्षत्र-विशेष (सम २६) । °रिसभ पु
[°श्रुषभ] अहोरात्र का इक्कीसवाँ युद्धतं (सम
२१) । °चच्छ पु [°वत्स] पक्षि-विशेष

(परण १-पत्र ५२) । °वाइया जी
[°पादिका] त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति

(परण १-पत्र ४५) ।

सत्त देखो सत्त = सत्तप् (पिग) । °र त्रि
[°दशन्] सतरह, १७, °ज चाणतयुणपि
हु वणियज्जइ सतरमेअदसमेअ (सिरि
१२८८, कम्म २, १, १६) । °रसच न

[°दशशत] एक सौ सतरह (कम्म २, १३) ।

सत्तत देखो सत्त-त = स्व-तन्त्र ।
सत्तत देखो सयय = सतत (राज) ।

सतय देखो सयय = शतक (सम १५४) ।
सतर न [सतर] दधि, दही (श्रीप ४८) ।

सति देखो सइ = स्मृति (ठा ४, १-पत्र
१८७, श्रीप) ।

सती देखो सई = सती (कुप्र ६०) ।

सतीणा देखो सईणा (ठा ५, ३-पत्र
३४३) ।

सतेरा जी [शतेरा] विदिय् रुचक पर रहने
वाली एक विद्युत्कुमारी देवी (ठा ४, १-
पत्र १६८, इक) ।

सत्त वि [शक्त] समर्थ (हे २, २, षड) ।

सत्त वि [शप्त] शाप-ग्रस्त, जिसपर आलोच
किया गया हो वह (पउम ३५, ६, पव
१०६ टी, प्रति ८६) ।

सत्त देखो सच्च = सत्य (अभि १८६, पिग) ।

सत्त वि [सक्त] आसक्त, गूढ़, लोचुप (सूय
१, १, १, ६, सुर ८, ६३६, महा) ।

सत्त पुन [सत्त] : सदाव्रत, जहाँ हमेशा
अन्न आदि का दान दिया जाता हो वह स्थान
(कुप्र १७२) । २ यज्ञ (अभि ८) । °साला
जी [°शाला] नवान्न-स्थान, दान क्षेत्र

(सण) । °गार न [°गार] वही अर्थ
(अभि २६) ।

सत्त वि [दे] गल, गया हुआ (पड) ।
सत्त पुन [सत्त] १ प्राणी, जीव, चेतन
(आचा, सुर २, ६३६, सुपा १०३, धर्मस
११८६) । २ अहोरात्र का दूसरा युद्धतं (सम
५१) । ३ न बल, पराक्रम । ३ मानसिक

उत्साह (पिड ६३३, अणु, प्रासू ७१) । १
विद्यमानता (धर्मस १०५) । ६ तणाव
सात दिनों का उपवास (सवोच ५८) ।

सत्त वि [सप्तन्] सात सख्यावाला, सात
(विपा १, १-पत्र २, कप्प, कुमा, जी ३३,
४१) । °खित्ती, °खित्ती जी [°क्षेत्री]

जिन-चैत्य, जिन-विम्ब, जैन ग्राम, वासु,
साध्वी, श्रावक और श्राविका ये सात धर
व्यय स्थान (ती ८, शु १२६, राज) । °न
[°क] सात का समुदाय (द ३५, कम्म ३,
२६, २७, ६, १३) । °चत्ताल वि

[°चत्वारिंश] सैंतालीसवाँ, ४७ वाँ (पउम
४७, ५८) । °चत्तालीस जीन [°चत्वारिं
शत्] सैंतालीस, ४७ सम ६७) । °च्छय
पु [°च्छद] वृक्ष-विशेष, सतवन का पत्र,

सतौता (प्राप्र, से १, २३, याया १, १६-
पत्र २११, सण) । °ट्टि जी [°पट्टि] ।

सख्या-विशेष, सडसठ, ६७ । २ सडसठ उल्ला
वाला (सम १०६, कम्म १, २३, ३२, ३
६) । °ट्टिधा अ [°षट्ठिधा] सडसठ प्रकार

का (सुज १२-पत्र २२०) । °णउइ देतो
°णउइ (राज) । °तोमइम वि [°शित्तण]

सइतीसवाँ, ३७ वा (पउम ३७, ७१) । °तु
पु [°तन्तु] यज्ञ (प्राप्र) । °दस वि

[°दशन्] सतरह, १७ (पउम ११७, ४७) ।
°पण्ण देखो यण्ण (राज) । °भूम वि

[°भूम] सात तलावाला प्रासाद (आ ११) ।
°भूमिय वि [°भूमिक] वही पूर्वोक्त अर्थ

(महा) । °म वि [°म] सातग, ७ वाँ
(कप्प) । जी, °मा (जी २६) । °मासिअ वि

[°मासिक] सात मास का (अप) ।
°मामिआ जी [°मासिती] सात मास में

पूर्ण होनेवाली एक साधु-प्रतिज्ञा, अत विदेव
(सम २१) । °मिया, °मा जी [°मिती,
°मी] १ मातवी, ७ वी (महा, सम २८,
चाद ३०, कम्म ३, ६, प्रासू १२१) । २

सातवो विमक्ति (वेइय ६८२, राज) । °
देखो °ग (कम्म ६, ६६ टी) । °र वि [°र]

सतरवाँ, ७० वा (पउम ७८, ७२) । °रि
[°दशन्] सतरह, १७ (कम्म २, ३) । °रत्त
पु [°रात्र] सात रातदिन का समय (अप) ।

°रस नि [°दशन्] सतरह, १७ (रा) ।
°रस, °रसम वि [°दश] सतरह

अठारहवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (पत्र ४६, सम १५४)। देखो भयालि।

सयालु वि [शयालु] सोने की आदतवाला, आलसी (कुम)।

सयावरी बी [सदावरी] त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १३६, सुख ३६, १३६)।

सयावरी देखो सयरी = शतावरी (राज)।

सयास देखो सगास = सकाश (काल, अभि १२५, नाट—मूच्छ ५२)।

सयासव वि [शताश्रव, सदाश्रव] सूक्ष्म छिद्रवाला (भग)।

सय्य देखो सज्ज = सद्यस्, 'सय्यभयुक्ति सय्य भवोयहीपारगो जयो तेय' (धर्मवि ३८)।

सय्यभव देखो सज्जभव (धर्मवि ३८)।

सय्य देखो सज्ज = सद्य (हे २, १२४, षड्)।

सर सक [सृ] ? सरना खिसकना। २ श्रवणम्बन करना, आश्रय लेना। ३ अरुसरण करना। सरइ (हे ४, २३४), सरैज्जा (उपप २५)। क सरणीअ (चउ २७), सरैअव्व (सुपा ४१४)।

सर सक [सृ] याद करना। सरइ (हे ४, ७४, गृह १२, प्राप्र)। वक्क सरत (सुपा ५६४), सरमाण (खाया १, ६—पत्र १६५, पउम ८, १६४, सुपा ३३६)। हेक्क सरि-त्ताए (पि ५७८)। क सरणीअ, सरैअव्व, सरियव्व (चउ २७, धम्मो २०, सुपा ३०७)। प्रयो सरयति (सूत्र १, ५, १, १६)।

सर सक [सर] आवाज करना। सरइ, सरनि (विसे ४६२)।

सर पुन [सर] ? वाण, 'मज्जे सराणि वरि-सयति' (खाया १, १४—पत्र १६१, कुमा, सुर १, ६८, स्वप्न ५५)। २ तृण विशेष, 'सो सरवणे निलोणो रहिमो तक्खिअव्व पच्छवो' (धर्मवि ६२, परण १—पत्र ३३, कुम ५०)। ३ छन्द-विशेष। ४ पांच की सख्या (पिग)। *पण्णी बी [पण्णी] तृण-विशेष, = मुन्न का घास (राज)। *पत्त न [पत्र] अन्न-विशेष (विसे ५१३)। *पाय न [पात]

धनुष (सूत्र १, ४, २, १३) *सण पुंन [सण] धनुष (विपा १, २—पत्र २४, पाअ, श्रौप)। *सणपट्टी, *सणवट्टिया बी [सणपट्टी, *सणपट्टिका] ? धनुषीछि, धनुषरंड। २ धनुष लीचने के समय हाथ की रक्षा के लिए बांधा जाता चर्मपट्ट—चमडे का पट्टा (विपा १, २—पत्र २४, श्रौप)। *सरि न [शरि] वाण-युद्ध (तिरि १०३२)।

सर पु [स्मर] कामदेव (कुमा, से ६, ४३)।

सर वि [सर] गमन-कर्ता (वस ६, ३, ६)।

सर पुं [स्वर] ? वर्ण-विशेष, 'अ' से 'औ' तक के अक्षर (परह २, २, विसे ४६१)।

२ गीत आदि को ध्वनि, आवाज, नाद (सुपा ५६, कुमा)। ३ स्वर के अनुरूप फलाफल को बतानेवाला शास्त्र (सम ४६)।

सर पुन [सरस्] तडाग, तालाब (से ३, ६, उवा, कप्प, कुमा, सुपा ३१६)। *पति बी [पट्क्ति] तडाग-पद्धति (ठा २, ४—पत्र ८६)। *रुह न [रुह] कमल, पद्म (प्राप्र, हे १, १५६, कुमा)। *सरपतिया बी [सर पट्क्ति] श्रेणि-बद्ध रहे हुए अनेक तालाब (परह २, ५—पत्र १५०)।

सर देखो सरय = शरद् (गा ७१२)। *दिट्ठु पु [इट्ठु] शरद् ऋतु का चन्द्र (सुर २, ७०, १६, २४६)।

सरउ बी [सरयू] नदी-विशेष (ठा ५, १—पत्र ३०८, ती ११, कस)।

सरग (अप) पु [सारङ्ग] छन्द-विशेष (पिग)।

सरव पु [शरन्व] हाथ से चलनेवाले सर्प की एक जाति (परह १, १—पत्र ८)।

सरक्खल सक [स + रक्ष्] अचञ्ची तरह रक्षण करना। सरक्खए (सूत्र १, १, ४, ११ टि)।

सरक्खल वि [सरजरु, सरक्ष] ? शैव-धर्मी, शिव-भक्त, भौत, शैव (श्रोथ २१८, विसे १०४०, उउ ६७७)। २ वि रजो-युक्त (आव ४)।

सरक्खल पुन [सदूरजस] ? धूलि, रज, 'ससरक्खोहि पाएहि' (वस ५, १, ७)। २ भस्म (पिड ३७, श्रोथ ३५६)।

सरग देखो सरय = शरक (खाया १, १८—पत्र २४१)।

सरग वि [शारक] शर-तृण से बना हुआ (शूषं आदि) (आचा २, १, ११, ३)।

सरगिका (अप) बी [सारङ्गिका] छन्द-विशेष (पिग)।

सरड पु [सरट] कुकलास, गिरगिट (खाया १, ८—पत्र १३३, श्रोथ ३२३, पुष्क २६७, दे ८, ११, उउ २६८, सुपा १७७)।

सरडु } न [शलाडु, *क] वह फल जिसमे
सरडुअ } अस्थि—गुठ्ठी न बँधी हो, कोमल फल (पिड ४५, आचा २, १, ८, ६, पि ८२, २५६)।

सरण पुन [शरण] ? त्राण, रक्षा (आचा, सम १, प्रासू १५६, कुमा)। २ त्राण-स्थान (आचा कुमा २, ४५)। ३ गृह, आश्रय, स्थान, 'निवायसरणप्पइवमिब चित्त' (सवोष ५१)। *दय वि [दय] त्राण-कर्ता (भग, पडि)। *गय वि [गत] शरणापन्न (प्रासू ५)।

सरण न [रमरण] स्मृति, याद (श्रोथ ८, विसे ५१८, महा, उउ ५६२, श्रौप, वि ६)।

सरण न [स्वरण] आवाज करना, ध्वनि करना (विसे ४६१)।

सरण न [सरण] गमन (राज)।

सरणि पुत्री [सरणि] ? मार्ग, रास्ता (पाअ, सुपा २, कुप्र २२), 'सरलो सरणी समग कहिमो' (साधं ७५)। २ आलवाल, क्यारी (गउड)।

सरण वि [शरण्य] शरण-योग्य, त्राण के लिए आश्रयणीय (सम १५३, परह १, ४—पत्र ७२, सुपा २६१, अञ्जु १५, सवोष ४८)।

सरत्ति अ [दे] शीघ्र, जल्दी, सहसा (दे ८, २)।

सरद्व देखो सरय = शरत् (प्राप्र)।

सरन्न देखो सरण (सुपा १८३)।

सरभ देखो सरह = शरण (भग, खाया १, १—पत्र ६५, परह १, १—पत्र ७, गा ७४२, पिग)।

[कोश] शब्द—औजार रखने का यैला (शाया १, १३—पत्र १८)। °वज्र वि [°वध्य] हथियार से मारने योग्य (शाया १, १६—पत्र १६६)। °वाङ्मन न [°वपा-टन] शब्द से चोरना (शाया १, १६—पत्र २०२, भ्रग)।

सत्य वि [दे] गत, गया हुआ (दे ८, १)।
सत्य देखो सत्य = स्वल्प।

सत्य न [स्वास्थ्य] स्वस्थता (शाया १, ६—पत्र १६६)।

सत्य पु [सार्थ] १ व्यापारी मुसाफिरो का समूह (शाया १, १५—पत्र १६३, उत ३०, १७, बृह १, अणु, सुर १, २१४)। २ प्राणि-समूह (कुमा, हे १, ६७)। ३ वि अन्वर्थ, यथार्थनामा (चेदय ५७२)। °वह, °वाह पुत्री [°वाह] सार्थ का मुखिया, सधनायक (श्रु ५५, उवा, विपा १, २—पत्र ३१)। स्त्री. °ही (उवा, विपा १, २—पत्र ३१)। °वाहिक पु [°वाहिक] वही पूर्वोक्त अर्थ (भवि)। °ह देखो °वाह (धर्मवि ४१, सण)। °हिव पु [°धिप] सार्थ-नायक (सुर २, ३२, सुपा ५६४)। °हिवइ पु [°धिपति] वही अर्थ (सुपा ५६४)।

सत्य पुन [शास्त्र] हितोपदेशक ग्रन्थ, हित-शिक्षक पुस्तक, तत्त्व-ग्रन्थ (विसे १३८४, कुमा), 'नाणसत्ये सुणतोवि' (श्रा ४)। °णु वि [°ज्ञ] शास्त्र का जानकार, 'सुमि-णसत्यणु' (उप ६८६ वी, उप पृ ३२७)। °गार वि [°कार] शास्त्र-प्रणेता (धर्मस १००३, सिक्खा ३१)। °त्य पु [°र्थ] शास्त्र-रहस्य (कुप्र ६, २०६, भवि)। °यार देखो °गार (स ४, धर्मस ६८२)। °वि वि [°विद्] शास्त्र-ज्ञाता (स ३१२)।

सत्यइअ वि [दे] उत्तेजित (दे ८, १३)।

सत्यर पु [दे] निकर, समूह (दे ८, ४)।

सत्यर } पुन [स्वस्तर] शब्दा, विज्ञौना
सत्यरय } (दे ८, ४ टी, सुपा ५८३, पाष्, पङ्, हास्य १३६, सुर ४ २४४)।

सत्यव देखो सत्यव = सस्तव (प्राक् ३३, पि ७६)।

सत्याम देखो मत्याम = सत्यामन् ।

सत्यान देखो सत्यव = सस्तव (प्राक् ३३)।

सत्यि अ स्त्री [रवस्ति] १ आशीर्वाद, 'सत्यि करेइ कविलो' (पउम ३५, ६२)। २ क्षेम, कल्याण, मंगल। ३ पुण्य आदि का स्वीकार (हे २, ४५, सस्ति २१)। °मई स्त्री [°मती] १ एक विप्र-स्त्री, क्षीरकदम्बक उपाध्याय की स्त्री (पउम ११, ६)। २ एक नगरी (उप ६०२)। ३ सनिवेश-विशेष (स १०३)। देखो सोत्यि।

सत्यिअ पु [स्तस्ति] १ माङ्गलिक विन्यास-विशेष, मंगल के लिए की जाती एक प्रकार की चावल आदि की रचना-विशेष (श्रा २७, सुपा ५२)। २ स्वास्तिक के आकार का आसन बन्ध (बृह ३)। ३ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४०)। °पुर न [°पुर] एक नगर का नाम (श्रा २७)। देखो सोत्यिअ।

सत्यिअ वि [सार्थिक] १ सार्थ-सम्बन्धी, सार्थ का मनुष्य आदि (कुप्र ६२, स १२६, सुर ६, १६६, सुपा ६५१, धर्मवि १२४)। २ पुं सार्थ का मुखिया (बृह १)।

सत्यिअ न [सक्थिक] ऊरु, जाँघ (स २६२)।

सत्यिआ स्त्री [शस्त्रिका] छुरी (प्राप्र)।

सत्यिग देखो सत्यिअ = स्वस्तिक (पचा ८, २३)।

सत्यिइ देखो सत्यिअ = सार्थिक (सुर १०, २०८)।

सत्यिल्लय देखो सत्य = सार्थ (महा, भवि)।

सत्यु वि [शास्त्र] शास्त्र-कर्ता, सीख देने-वाला (आचा, सूत्र २, ५, ४, १, १३, २)। सत्युअ देखो सत्युअ (प्राक् ३३, पि ७६)।

सदा देखो सदा = सदा (राज)।

सदावरी देखो सयावरी = सदावरी (उत ३६, १३६)।

सदिस (शौ) देखो सरिस = सदश (नाट—मृच्छ ११३)।

सद् अक [शब्दय्] १ आवाज करना। २ सक आह्वान करना, बुलाना। सद्इ (पिग)।

सद् पुन [शब्द] १ श्वनि, आवाज (हे १, २६०, २, ७६, कुमा, सम १५), 'सदाणि विस्वव्याणि' (सूत्र १, ४, १, ६), 'सदाइ' (प्राचा २, ८, २, ४)। २ पु नय-विशेष

(ठा ७—पत्र ३६०, विसे २१८)। ३ छन्द-विशेष (पिग)। ४ नाम, आटा (महा)। ५ प्रसिद्धि (श्रीप, शाया १, १ टी—पत्र ३)। °वेहि वि [°वेधिर] शब्द के अनुसार निशाना मारनेवाला (शाया १, १८—पत्र २३६, गडड)। °वाइ पु [°पातिन्] एक वृत्त वैताल्य पर्वत (ठा २, ३—पत्र ६६, ८०, ४, २—पत्र २२३, इकी)।

सद्इल न [शास्त्रल] हरित, हरा घास (प्राप्र, शाया १, १—पत्र २४, गडड)।

सद्इलिय वि [शास्त्रलिय] हरा घासवाला प्रदेश (गडड)।

सद्इह सक [श्रद् + धा] श्रद्धा करना, विश्वास करना, प्रतीति करना। सद्इहइ, सद्इहमि (हे ४, ६, भग. उवा)। भवि सद्इहिसइ (पि ५३०)। वक्क सद्इहइ, सद्इहमाण सद्इहाण (नव ३६, हे ४, ६, धु २३)। सक सद्इहिन्ता (उत २६, १)। क सद्इहियन्व (उव, स ८६, कुप्र १४६)।

सद्इहण देखो सद्इहाण (हे ४, २३८, कुमा)।

सद्इहणया स्त्री [श्रद्धान] श्रद्धा, विश्वास, सद्इहणा } प्रतीति (ठा ६—पत्र ३५५, पचभा)।

सद्इहा देखो सद्इहा = श्रद्धा (सद्दि १२७)।

सद्इहाण न [श्रद्धान] श्रद्धा, विश्वास (श्राक ६२, पव ११६, हे ४, २३८)।

सद्इहाण देखो सद्इह।

सद्इहिअ वि [श्रद्धित] जिस पर श्रद्धा की गई हो वह, विश्वस्त (ठा ६—पत्र ३५५, पि ३३३)।

सद्इइइ (शौ) वि [शब्दायित] शब्द, बुलाया हुआ (नाट—मृच्छ २८६)।

सद्इाण देखो सदाण। सद्इाणइ (पङ्)।

सद्इाल वि [शब्दचत्] शब्दवाला (हे २, १५६, पउम २०, १०, प्राप्र, सुर ३, ६६, पाप, श्रीप)।

सद्इाल न [दे] नूपुर (दे ८, १०, पङ्)।

°पुत्त पु [°पुत्र] एक जैन उपासक (उवा)।

सद्इाय मक [शब्दय्य, शब्दायय] आह्वान करना, बुलाना। सद्इायइ, सद्इायमि, सद्इायि (श्रीप, कण, भा)। सद्इायि

सरी स्त्री [दे] माला, हार (सुपा २३१)।
 सरीर पुन [शरीर] देह, काय, तनु (सम ६७, उवा, कुमा, जो १२), 'कद ए भते सरोरा परणत्ता' (पण १२)। °णाम, °नाम पुन °नासन्] कर्म-विशेष, शरीर का कारण-भूत कर्म (राज, सम ६७)। °वधण न [°बन्धन] कर्म-विशेष (सम ६७)। °संघायण न [°सघातन] नाम कर्म का एक भेद (सम ६७)।
 सरीरि पु [शरीरिन्] जीव, आत्मा (पउम ११२, १७)।
 सरीसव } पु [सरीसप] १ सर्प, सर्प (खा सरीसिव) ११. सूत्र १, २, २, १४)। २ सर्प की तरह पेट से चलनेवाला प्राणी (सम ६०)।
 सरुय } देवो स-रुय = स्वरूप।
 सत्त्व }
 सरुय देवो स-रुय = सद्-रूप, स रूप।
 सरुवि पु [स्वरूपिन्] जीव, प्राणी (ठा २, १—पत्र ३८)।
 सरेअव्य देवो सर = छ, स्मृ।
 सरेवय पु [दे] १ हस। २ घर का जल-प्रवाह, मोरी (दे ८, ४८)।
 सरोअ न [सरोज] कमल, पद्म (कुमा, अञ्चु ४२, सुपा ५६, २११, कुप्र २६८)।
 सरोरुह न [सरोरुह] ऊपर देवो (प्राप्र, कुमा, कुप्र ३०४)।
 सरोवर न [सरोवर] बड़ा तालाव (सुपा २६०, महा)।
 सलभ देवो सलह = शलभ (राज)।
 सलली स्त्री [दे] सेवा (दे ८, ३)।
 सलह सक [शलाघ] प्रशसा करना। सलहइ (हे ४, ८८)। कर्म सलहिण्णइ (पि १३२)। कृ सलहिज्ज (कुमा)। देवो सलहा।
 सलह पुं [शलभ] १ पतङ्ग (पाप्र, गउड, सुपा १४२)। २ एक वणिकपुत्र (सुपा ६१७)।
 सलहण न [शलाघन] प्रशसा, शलाघा (गा ११४, पि १३२)।
 सलहस्य पु [दे] कुड्ढी आदि का हाथा (दे ८, ११)।
 सलहअ वि [शलाघिन] प्रशसित (कुमा)।
 १११

सलहिज्ज देवो सलह = शलाघ।
 सलगा न [शालाक्य] चिकित्सा शास्त्र—आयुर्वेद का एक भ्रग, जिसमें श्रवण आदि शरीर के ऊर्ध्व भाग के सम्बन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शास्त्र (विपा १, ७—पत्र ७५)।
 सलगा स्त्री [शलाका] १ सती, सलाई सलया } (सूत्र १, ४, २, १०, कल्पू)।
 २ पल्प-विशेष, एक प्रकार की नाप (जीवस १३६, कम्म ४, ७३, ७५)। °पुरिस पु [पुरुष] २४ जिनदेव, १२ चक्रवर्ती, ६ वासुदेव। ६ प्रतिवासुदेव तथा ६ बलदेव ये ६३ महापुरुष (सबोध ११)।
 सलाह देहो सलह = शलाघ। सलाहइ (प्राकृ २८)। बहू. सलाहमाण (गा ३४६, सम्म १५६)। कृ सलाहणिज्ज, सलाहणिघ, सलाहणीअ (प्राकृ २८, राया १, १६—पत्र २०१, सुर ७, १७१, रयण ३५, पउम ८२, ७३, पि १३२)।
 सलाहण न [शलाघन] श्लाघा, प्रशसा (गा ११४, उप पु १०६)।
 सलाहा स्त्री [शलाघा] प्रशसा (प्राप्र, हे २, १०१, षड्)।
 सलहिअ देवो सलहिअ (कुमा)।
 सल्लि पुन [सल्लि] पानी, जल, 'सल्लिणा ए सदत्ति ए वत्ति वाया' (सूत्र १, १२, ७, कुमा, प्रासू ३५)। °णिहि पु [°निवि] सागर, समुद्र (से ६, ६)। °नाह पु [°नाथ] बही (पउम ६, ६६)। °विल न [°विल] भूमि-निर्कर, जमीन से बहता करना (भग ७, ६—पत्र ३०५)। °रासि पु [°राशि] समुद्र (पाप्र)। °वाह पु [°वाह] भेघ (पउम ४२, ३४)। °हर पु [°धर] बही (से ६, ६४)। °वई, °वती स्त्री [°वती] विजय-क्षेत्र-विशेष (राज, राया १, ८—पत्र १२१)। °अत्त न [°वर्त] वैताल्य पर्वत पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)।
 सल्लिा स्त्री [सल्लिा] महानदी, बडो नदी (सम १२२)।
 सल्लिुच्छय वि [सल्लिुच्छय] प्लावित, डुबोया हुआ (पाप्र)।

सल्लिस थक [स्वप्] सोना, शयन करना। सल्लिसइ (षड्)।
 सल्लुण देवो स-ल्लुण = स-लवण।
 सल्लोग पु [श्लोक] श्लाघा, प्रशसा (सूत्र १, १३, १२)। देवो सल्लोग।
 सल्लोग देवो स-ल्लोग = स लोक।
 सल्लोग देवो स-ल्लोग = स-लवण।
 सल्लोय देवो सल्लोग = श्लोक (सूत्र १, ६, २२)।
 सल्ल पुन [शल्य] १ अन्न-विशेष, तोमर, साँग, 'तम्रो सल्ला परणत्ता' (ठा ३, ३—पत्र १४७)। २ शरीर में घुसा हुआ काँटा, तीर आदि (सूत्र २, २, २, पचा ६, १६, प्रासू १२०)। ३ पापानुष्ठान, पाप-क्रिया, 'पागाडियसम्बसल्लो' (उवा, सूत्र १, १५, २४)। ४ पापानुष्ठान से लगनेवाला कर्म (सूत्र १, १५, २४, वव १)। ५ पु. भरत के साथ दीक्षा लेनेवाले एक राजा का (पउम ८५, २)। ६ न. छन्द-विशेष (पिग)। °ग वि [°क] शल्यवाला, शूल आदि शल्य से पीडित (पणह २, ५—पत्र १५०)। °ग न [°ग] परिज्ञान, जानकारी (सूत्र २, २, ५७)।
 सल्ल पुत्री [दे] हाथ से चलनेवाले सर्प-जातीय जन्तु की एक जाति (सूत्र २, ३, २५)।
 सल्लइय वि [शल्यकित] शल्य युक्त, जिसको शल्य पैदा हुआ हो वह (राया १, ७—पत्र ११६)।
 सल्लई स्त्री [सल्लकी] वृक्ष-विशेष (राया १, ७ टी—पत्र ११६, उप १०३१ टी, कुमा, घर्मवि १३०, सुपा २६१)।
 सल्लग देवो सल्ल-ग = शल्य-क, शल्य-ग।
 सल्लग देवो स-ल्लग = सत्-लग।
 सल्लहत्त पुन [शल्यहत्त] आयुर्वेद का एक भ्रग, जिसमें शल्य निकालने का प्रतिपादन किया गया हो वह शास्त्र (विपा १, ७—७५)।
 सल्ला स्त्री [शल्य] एक महौषधि (ती ५)।
 सल्लिअ वि [शल्यित] शल्य-पीडित (सुर १२, १५२, सुपा २२७, महा, भवि)।
 सल्लिह देवो सल्लिह = स + लिह्। सल्लिहिदि (आरा ३५)।

सप्फल देखो स-प्फल = स फल ।

सप्फल देखो स-प्फल = सत्-फल ।

सफर देखो सभर = शफर (वै २०) ।

सफर पुन [दे] मुसाफिरी, 'वडसफरपवह-
णाण' (सिदि ३८२) ।

सफल देखो स फल = स-फल ।

सफल सक [सफलय्] सार्थक करना ।
वह्. सफलत (सुपा ३७४) ।

सफलअ वि [सफलित] सफल किया हुआ
(सुपा ३५६, जव) ।

सब (अप) देखो सब्व = सर्व (पिग) ।

सवर पुं [शवर] १ एक अनार्य देश । २ उस
देश मे रहनेवाली एक अनार्य मनुष्य-जाति,
किरात, भील (पएह १, १—पत्र १४, पाय,
गडड) । °णियसण न [°णियसन] तमाल-
पत्र (उत्तानि ३) । देखो सवर ।

सवरी स्त्री [शवरी] १ भिल्ल जाति की स्त्री
(णाय १, १—पत्र ३७, अतः गडड, चेइय
४८२) । २ कायोत्सर्ग का एक दोष, हाथ से
शुद्ध प्रदेश को ढककर कायोत्सर्ग करना (चेइय
४८२) ।

सबल पु [शबल] १ परमाधार्मिक देवो की
एक जाति (सम २८) । २ वि. कर्तुर,
चितकवरा (आचा, उप २८२, गडड) । ३
न दूषित चारित्र । ४ वि. दूषित चरित्रवाला
मुनि (सम ३६) ।

सबलिय वि [शबलित] कर्तुरित (गडड) ।

सबलीकरण न [शबलीकरण] सबोष करना,
चारित्र को दूषित बनाना (श्रोप ७७८) ।

सब्व (अप) देखो सब्व = सर्व (पिग) ।

सब्वल पुन [दे] शन्न-विशेष, 'सरभसरसत्ति-
सब्वलकरालकतिसु' (पउम ८, ६५, धर्मवि
५६) ।

सब्वल देखो स-ब्वल = स-बल ।

सब्ववि [सब्वय] १ सभावद, सदस्य (पात्र,
सम्मत् ११६) । २ सभोचित, शिष्ट, 'असब्व-
भासी' (वस ६, २, ८, सुर ६, २१५, स
६५०) ।

सब्वभाव देखो स-ब्वभाव = सद-भाव ।

सब्वभाव देखो स-ब्वभाव = स्व-भाव ।

सब्वभाविय वि [साद्भाविक] पारमार्थिक,
वास्तविक (दमनि १, १३५) ।

सभ न. देखो सभा, 'सभाणि' (आचा २,
१०, २) ।

सभर पुत्री [शफर] मत्स्य, मछली (कुमा) ।
स्त्री 'री (हे १, २३६, प्राकृ १४) ।

सभर पु [डे] गृध्र पक्षी (दे ८, ३) ।

सभराइअ न [शफरायित] जिसने मत्स्य की
तरह आचरण किया हो वह (कुमा) ।

सभल देखो स-भल = स-फल ।

सभा स्त्री [सभा] १ परिषद् (उमा, रयण
८३, धर्मवि ६) । २ गाडी के ऊपर की
छत—ढकन (आ १२) ।

सभाज सक [सभाजय्] पूजन करना ।
हेकृ सभाजइडु (शौ) (अभि १६०) ।

सभाव देखो स-भाव = स्व-भाव ।

सम अक [शम्] १ शान्त होना, उपशान्त
होना । २ नष्ट होना । ३ आसक्त होना ।
समइ, समति (हे ४, १६७, कुमा), 'जइ
समइ सकराए पित्त ता कि पटोलाए' (सिदि
६६६) । वह्. समेमाण (आचा १, ४,
१, ३) ।

सम सक [शमय्] १ उपशान्त करना,
दवाना । २ नाश करना । वह्. 'डुडुडुरिए
समतो' (धर्मा ३) ।

सम पु [श्रम] १ परिश्रम, आयास । २ खेद,
थकावट (काप्र ८४, सम्मत् ७७, दे १,
१३१, उप पु ३५, सुपा ५२५, गडड, सण,
कुमा) । °जल न [°जल] पसीना (पात्र) ।

सम पु [शम] शान्ति, प्रशम, क्रोध आदि का
निग्रह (कुमा) ।

सम वि [सम] १ समान, तुल्य, सरिखा
(सम ७५, उव, कुमा, जो १२, कम्म ४,
४०, ६२) । २ तटस्थ, मध्यस्थ, उदासीन,
राग-द्वेष से रहित (सुम १, १३, ६, ठा
८) । ३ स सर्व, सब (श्रु १२४) । ४ पुन.
एक देव-विमान (सम १३, देवेन्द्र १४०) ।

५ सामायिक (सबोष ४५, विते १४२१) ।
६ आकाश, गगन (भग २०, २—पत्र
७७५) । °चउरंस न [°चतुरस्र] सत्यान-

विशेष, चारो कोणो के समान शरीर की

आकृति-विशेष (ठा ६—पत्र ३५७, स
१४६, भग, कम्म १, ८०) । °चक्रवाल न
[°चक्रवाल] वृत्त, गोलाकार (गुज ४) ।
°ताल न [°ताल] १ कला विशेष (श्रीप) ।

२ वि. समान तालवाला (ठा ७) । °वग्मि-
वि [°धर्मिक] समान धर्मवाला (उप ५३०
टी) । °पादपुत पुन [°पादपुत] ब्रह्म

विशेष, जिसमे दोनो पैर मिलाकर जमीन मे
लगाए जाते हैं वह आसन-वन्ध (ठा ५, १—
पत्र ३००) । °पासि वि [°दग्निन्] तुल्य

दृष्टिवाला, समदर्शी (गच्छ १, २२) । °पपभ
पुन [°प्रभ] एक देव-विमान (सम १३) ।

°भान पु [°भाव] समता (सुपा ३२०) ।
°या स्त्री [°ता] राग-द्वेष का अभाव,
मध्यस्थता (उत्त ४, १०, पउम १४, ४०,
आ २७) । °वत्ति पु [°वर्तिन्] यमराज,

जम (सुपा ४३३) । °सरिस वि [°सटश]
अत्यन्त तुल्य, सदृश, (पउम ४६, ५०) ।

°साहेय वि [°सहित] युक्त, सहित
(पउम १७, १०५) । °सुद्ध पु [°शुद्ध]
एक राधा जो छठवें कैशव का पिता था

(पउम २०, १८२) ।
समइअ वि [सामयिक] समय-संबन्धी,
समय का (भग) ।

समइअ वि [समयित] सकेतित (धर्म
५०५) ।

समइअ न [सामयिक] सामायिक नापक
सयन-विशेष (कम्म ३, १८, ४, २१, २८) ।
समइअ देखो समइच्छिअ (से १२, ७२) ।
समइअ वि [समतिक्रान्त] व्यतीत, उपर
हुआ (सुपा २३) ।

समइअ सक [समति + क्रम्] १ उल्लस
करना । २ अन् पुजरना, पतार हाना । वह्.
समइअमाण (श्रोप, कम्म) ।

समइअ वि [समतिक्रान्त] १ उपर
हुआ । २ उल्लसित (उप ७२८ य, दे ८,
२०, य ४५) ।

समइअ वि [समतीत] १ उपर हुआ
(पउम ५, १५२) । २ पुं. भूत कान (सोम
१८१) ।

समइअ देखो समइअ = समयिक (कम्म १,
८२) ।

(पत्र १६४) । ६ एक नगर का नाम (विपा १, ५—पत्र ६१) । ७ अच्युतेन्द्र का एक पारियाणिक विमान (छा १०—पत्र ५१८, श्रौप) । ८ दृष्टिवाद का एक सूत्र (सम १२८) । ९ पु यज्ञ की एक जाति (राज) । १० देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र १३६, १४१) ।
 °ओमहा ली [°तोभद्रा] प्रतिमा-विशेष, एक व्रत (श्रौप छा २, ३—पत्र ६४, अत २६) । °कामसमिद्ध पु [°कामसमृद्ध] पक्ष का छठवाँ दिवस, षष्ठी तिथि (सुज १०, १४) । °कामा ली [°कामा] विद्या-विशेष, जिसकी साधना में सर्व इच्छार्थ पूर्ण होती है (पत्रम ७, १०७) । °गत्र वि [°गत] व्यापक (अच्यु १०) । °गा ली [°गा] उत्तर हृक्क पर्वत पर रहनेवाली एक विकुमारी देवी (छा ८—पत्र ४३७) । °गुप्त पु [°गुप्त] एक जैन मुनि (पत्रम २०, १६) । °ज्ज वि [°ज्ज] १ सर्व पदार्थों का जानकार । २ पु. जिन भगवान् । ३ बुद्धदेव । ४ महादेव । ५ परमेश्वर (हे २, ८३, पङ्, प्राप्) । °हुं पुं [°थि] १ अहोरात्र का उनतीसवाँ मुहूर्त (सुज १०, १३) । २ पुन सहस्रा देवलोक का एक विमान (सम १०५) । ३ अनुत्तर देवलोक का सर्पयसिद्ध नामक एक विमान (पत्र १६०) । ४ पु सब अर्थ (आचा १, ८, ८, २५) । °हृसिद्ध पुन [°थिसिद्ध] १ अहोरात्र का उनतीसवाँ मुहूर्त (सम ५१) २ एक सर्व-श्रेष्ठ देव-विमान, अनुत्तर देवलोक का पाचवाँ विमान (सम २, भग, अत, श्रौप) । ३ पु ऐरवत वर्ष में उत्पन्न होनेवाले छठवें जिनदेव (पत्र ७) । °हृसिद्धा ली [°थिसिद्धा] भगवान् धर्मनायकी की दौसा-शिक्षिका (विचार १२६) । °हृसिद्धि ली [°थिसिद्धि] एक देव-विमान (देवेन्द्र १३७) । °णु देवो °ज्ज (हे १, ५६, पङ्, श्रौप) । °त्त देवो °ध (सपु १५०) । °त्तो देवो °ओ (पाय) । °य अ [°त्र] सत्र स्यात में, सब में (गउड, प्राप्, ३६, ६८) । °दसि, °दरिसि वि [°दशान्] १ सत्र वस्तुओं को देखनेवाला । २ पु जिन भगवान्, अर्हण (राज, भग, सम १, पडि) । °द्वेष पु [°द्वेष] १ एक प्रसिद्ध जैन आचार्य

(सार्धं ८०) । २ राजा कुमारपाल के समय का एक सेठ (कुप्र १४३) । °दसि देवो °दसि (चेदय ३५१) । °द्धा ली [°द्धा] सब काल, अतीत आदि सर्व समय (भग) । °धत्ता ली [°धत्ता] व्यापक, सर्व-ग्राहक (विसे ३४६१) । °न्नु देवो °ज्ज (सम १, प्राप् १७०, महा) । °पग वि [°त्मक] १ व्यापक । २ पु लोभ (सूत्र १, १, २, १२) । °पमा ली [°प्रमा] उत्तर हृक्क पर्वत पर रहनेवाली एक विष्कुमारी देवी (राज) । °भक्ख वि [°भत्र] सबको खाने वाला, सर्व-भोजी, श्रिंगमिव स्वभक्खे (आया १, २—पत्र ७६) । °भहा ली [°भद्रा] प्रतिमा-विशेष, व्रत विशेष (पत्र २७१) । °भावविद्ध पु [°भावविद्] आगामी काल में भारत वर्ष में होनेवाले बाहरवें जिन-देव (सम १५३) । °य वि [°य] सब देनेवाला (पएह २, १—पत्र ६६) । °या अ [°दा] हृषेया; सदा (रंभा) । °रयण पुं [°रत्न] १ एक महा-निधि (छा ६—पत्र ४४६) । २ पुन पर्वत-विशेष का एक शिखर (इक) । °रयणा ली [°रत्ना] ईशानेन्द्र की वसुमित्रा नामक इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । °रयणामय वि [°रत्नमय] १ सब रत्नों का बना हुआ (पि ७०, जीव ३, ४) । २ चक्रवर्ती का एक निधि (ज्व ६८६ टी) । °विग्गाहिअ वि [°विग्रहिहक] सर्व-सक्षिप्त, सबसे छोटा (भग १३, ४—पत्र ६१६) । °विरह ली [°विरति] पाप-कर्म से सर्वथा निवृत्ति, पूर्ण समय (विसे २६८४) । °सगय [°सङ्गन] मुष्टु (पत्रम—पत्र ० ३२१, पर्व ११०, गा० ४४) । °सजम पु [°सयम] पूर्ण संयम (राय) । °सह वि [°सह] सब सहन करनेवाला, पूर्ण सक्षिणु (पत्रम १४, ७६) । °सिद्धा ली [°सिद्धा] पक्ष की चौथी, नववी श्रोर चौदहवी रात्रि-तिथि (सुज १०, १५) । °सो अ [°शस] सब श्रोर से, सब प्रकार से (उत १, ४, आचा) । °स्स न [°स्व] सकल द्रव्य, सत्र घन (स ४५६, अग्नि ४० कप्पु) । °हा थ [°था] सब प्रकार से, सब तरह से (गा ८६७, महा, प्राप् ३,

१८१) । °णद पुं [°नन्द] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिन-देव (सम १५४) । °णुभूह पुं [°णुभूति] १ भारत वर्ष में होनेवाले पाँचवें जिन भगवान् (सम १५३) । २ भगवान् महावीर का एक शिष्य (भग १५—पत्र ६७८) । °रहा ली [°रहा] विद्या-विशेष (पत्रम ७, १४४) । °य वि [°य] सपूर्ण (भग) । °सग पु [°सग] अग्नि, आग (हे ४, ३६५) ।
 सव्वकस वि [सर्वकस] १ सर्वातिशयो, सर्व से विशिष्ट (कप्पु) । २ न. पाप (आव) । सव्वग वि [सर्वग] १ सपूर्ण (छा ४, २—पत्र २०८) । सर्व-शरीर-व्यापी (राज) । °सुदर वि [°सुन्दर] १ सर्व अंगों में श्रेष्ठ । २ पुन तन-विशेष (राज, पत्र २७१) ।
 सव्वगिअ वि [सर्वगिण] सर्व अययों सव्वगीण में व्याप्त (हे २, १५१, कुमा, से १५, ५४) । 'सव्वगीणामरण पत्तय तेण ताण कय' (कुप्र २३५, धर्मवि १४६) ।
 सव्वण देवो स-व्वण = सत्रण ।
 सव्वराइअ वि [सर्वरात्रिक] सपूर्ण रात्रि से सम्बन्ध रखनेवाला, सारी रात का (सूत्र २, २, ५५, कप्पु) ।
 सव्वरी ली [शर्वरी] रात्रि, रात (पाय, गा ६५३, सुगा ४६१) ।
 सव्वल पु [दे शर्वल] कुन्त, बर्दा (राज, काल) । देवो सद्धल ।
 सव्वला ली [दे शवला] कुशी, लोहे का एक हथियार (दे ८, ६) ।
 सव्ववेक्ख देवो स-व्ववेक्ख = स-व्वपेक्ष । सव्व्याव देवो सव्व-व = सर्वाप । सव्व्याव देवो स-व्व्याव = स-व्याप ।
 सव्व्यावति अ [दे] सर्व, सब, सपूर्ण, 'एयावति सव्व्यावति लोमसि' (आचा), 'सव्व्यावति च ए तीसे ए पुक्खरिणीप' (सूत्र २, १, ५), 'सव्व्यावति च ए लोमसि' (सूत्र २, ३, १), 'सव्व वि सव्व्यावति फुससाणकालसमवसि जावसिय खेत फुसद' (भग १, ६—पत्र ७७) ।
 सञ्चिद्धि ली [सर्विद्धि] सपूर्ण वैभव (सामा १, ८—पत्र १३१) ।

समालोच पुं [समालोच] विचार, विमर्श (उप ३६६)।

समालोचन न [समालोचन] सामान्य अर्थ का दर्शन (विश्वे २७६)।

समाव सक [सम् + आप्] पूरा करना। समावेह (हे ४, १४२)। कर्म सम्पन्न (हे ४, ४२२)।

समावर्जिय वि [समावर्जित] प्रसन्न किया हुआ (महा)।

समावड अक [समा + पत्] ? समुख आकर पडना, गिरना। २ लगना। ३ सम्बन्ध करना। समावडह (भवि)।

समावडण न [समापत्त] पडना, गिरना (गडड)।

समावडिय वि [समापतित] ? समुख आकर गिरा हुआ (सुर २, ६, सुपा २०३)। २ वड (श्रीप)। ३ जो होने लगा हो वह, 'समावडिय जुड' (स ३८३, महा)।

समावण वि [समापन्न] सप्राप्त (सम १३४, भग)।

समावत्ति स्त्री [समावाप्ति] समाप्ति, पूर्णता, 'ते य समावत्तीए विहरता' (सुख २, ७)।

समावद सक [समा + वद्] बोलना, कहना। समावदेजा (आचा १, १५, ५४)।

समावन्न देखो समावण (स ४७६, उवा, ठा २, १—पत्र ३८, वस ५, २, २)।

समावय देखो समावद। समावडजा (आचा २, १५, ५)।

समावय देखो समावड। वक. समावयत (वस ६, ३, ८)।

समाविअ वि [समापित] पूर्ण किया हुआ (गा ६१, दे ७, ४५)।

समास अक [सम् + आस] ? वैठना। २ रहना। समासह (भवि)।

समास सक [समा + अस] अन्वो तरह फेंकना। कर्म समासिज्जति (एदि २२६)।

समास पु [समास] ? सलेप, संकोच (जीवस १, जो २१)। २ सामायिक, समय-विशेष (विसे २७६५)। ३ व्याकरण-प्रसिद्ध एक प्रक्रिया, मनेक पदों के मेल करने की रीति

(पएह २, २—पत्र ११४, अणु, विसे १००३)। ४ समीप (दश वै० वृद्ध० पत्र)।

समासग पु [समासङ्ग] सयोग (गा ६६१ ?)।

समासगत वि [समासगत] सगत, सम्बद्ध (रंभा)।

समासज्ज देखो समासाद।

समासत्थ वि [समाश्रस्त] ? आश्रय-प्राप्त (पठम १८, २८, से १२, ३७, सुख २, ६)। २ स्वस्थ बना हुआ (स १२०, सुर ६, ६६)।

समासय पु [समाश्रय] आश्रय, स्थान (पठम ७, १६८, ४२, ३५)।

समासव सक [समा + स्तु] श्राना, आगमन करना। समासवदि (द्रव्य ३१)।

समासस देखो समरसस। कृ समाससि-अव्व (से ११, ६५)।

समासाद (शौ) सक [समा + सादय] प्राप्त करना। समासादेहि (स्वप्न ३७)। कृ समासादइदव्व (मा ३६)। सक. समासज्ज, समासिज्ज (आचा १, ८, ८, १, पि २१)।

समासादिअ वि [समासादित] प्राप्त (वस १, १ टी)।

समासासिय वि [समासासित] जिसको आश्रय दिया गया हो वह (महा)।

समासि सक [समा + श्रि] सम्पन्न आश्रय करना। कर्म. समासिज्जइ, समासिज्जति (एदि २२६)।

समासिज्ज देखो समासाद।

समासिय वि [समाश्रित] आश्रय-प्राप्त (पठम ८०, ६४)।

समासिय वि [समासित] उपवेशित, बैठाया हुआ (भवि)।

समासीण वि [समासीन] बैठा हुआ (महा)।

समाहट्टु देखो समाहर।

समाहड वि [समाहृत] ? विशुद्ध, निर्मल, 'असमाहडाए वेस्साए' (आचा २, १, ३, ६)। २ स्वीकृत (राज)।

समाहय वि [समाहत] आपात-प्राप्त, आहत (श्रीप, सुर ४, १२७, तण)।

समाहर सक [समा + ह] 'अहुराकर' २ एकत्रित करना। सक. समाहट्टु (स १, ८, २६, १, १०, १५), समाहरीत (अप) (भवि)।

समाहविअ वि [समाहृत] आहत हुआ (वर्मवि ६०)।

समाहाण न [समाघान] ? समाधि (३२० टी)। २ श्रोतृमुख्य-निवृत्ति का सम्मानसिक शान्ति, चित्त स्वस्थता (अट्ट ११, सुपा ५४८)।

समाहार पु [समाहार] ? समूह, 'समाहारो भाविज्जइ एस विपन' (स ११५)। 'दद पु [द्वन्द्व] व्याकरण' समास-विशेष (विद्य ६६०)।

समाहारा स्त्री [समाहारा] ? स्त्री पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी स्त्री (८—पत्र ४३६, इक)। २ पत्नी (स २०, १४)।

समाहि पु स्त्री [समाधि] ? चित्त स्वस्थता, मनोदुःख का मर्दान (स १६, १, सुख १६, १, वेद ३३) २ स्वस्थता, 'साहाहि वसो तन्ने व' द्विजाहि सहाहि तमव वाणु' (उव २६)। ३ धर्म। ४ शुभ ध्यान, विद्या

एकाग्रता रूप ध्यानावस्था (सुप १, १५) सुपा ८६)। ५ समता, राग प्रादि का वृद्ध (ठा १० टी—पत्र ४७८)। ६ शुद्ध ७ चारित्र्य, समयानुष्ठान (अ ४, १६५)। ८ पु. भरत-पत्र के सप्तमः के तीर्थकर (सम १५४, पत्र ४६)। 'प' [प्रतिमा] समाधि नियमक वर्तमान (४, १)। 'पाण न [पाण] धर्म का पानी (नत ४०)। 'मरा न [मरा] समाधि-युक्त मीत (पडि)।

समाहिअ वि [समाहित] ? समूह (सुप १, २, २, ४, सुमनि १०, १५, पठम ६०, २४, श्री, मरु)। २ तरह व्यवस्थापित। ३ उत्कृष्ट (स ८, ६, ३)। ४ समापित (सिद्ध ११)। शोभन, मुन्दर। ६ समीप (स १, ३, १, १०)।

समाहित वि [समाहित] ? समूह (सुप १, २, २, ४, सुमनि १०, १५, पठम ६०, २४, श्री, मरु)। २ तरह व्यवस्थापित। ३ उत्कृष्ट (स ८, ६, ३)। ४ समापित (सिद्ध ११)। शोभन, मुन्दर। ६ समीप (स १, ३, १, १०)।

समाहित वि [समाहित] ? समूह (सुप १, २, २, ४, सुमनि १०, १५, पठम ६०, २४, श्री, मरु)। २ तरह व्यवस्थापित। ३ उत्कृष्ट (स ८, ६, ३)। ४ समापित (सिद्ध ११)। शोभन, मुन्दर। ६ समीप (स १, ३, १, १०)।

°यर (कुमा) । °चरण न [°चरण] सहचर, साथ रहना भेलाप, 'रमणनिहायोहि भवउ सहचरण' (धु ८४) । °ज पु [°ज] १ स्वभाव (कुमा, पिंग) । २ वि. स्वाभाविक (चैद्व ४७१) । °जाय वि [°जात] एक साथ उत्पन्न (आया १, ५—पत्र १०७) । °देव पु [°देव] १ एक पाण्डव, माद्री पुत्र (धर्मवि ८१) । २ राजगृह नगर का एक राजा (उप ६४८ टी) । °देवा स्त्री [°देवा] श्रोतव्य-विशेष (धर्मवि ८१) । °देवी स्त्री [°देव] १ चतुर्थ चक्रवर्ती की माता (सम १५२ महा) । २ एक महौषधि (ती ५) । °धर्मचारिणी स्त्री [°धर्मचारिणी] पत्नी, भार्या (प्रात २२) । °पसुनीलिअ वि [°पाशुनीलिअ] बाल-पित्त (सुपा २५४, आया १, ५—पत्र १०७) । °य देखो °ज (चैद्व ४४९, राज) । °यर वि [°चर] १ सहाय, साहाय्य कर्ता । २ वयस्य, दोस्त । ३ अनुचर (पात्र, कुप्र २। अच्यु ६०, नाट—शकु ६१) । °यरी स्त्री [°चरी] पत्नी, भार्या (कुप्र १५१, से ८, ६६) । °यार देखो °कार (पात्र, हे १, १७७) । °राग वि [°राग] राग-सहित (पत्रम १४, ३.) । °र देखो °कार (पत्रम ५३, ७६) । सह°देवो सहा = सभा (कुमा) । सहउरिथया स्त्री [°दे] द्वती (दे ८, ६) । सहशुह पु [°दे] बूक, उल्लू, पक्षि-विशेष (दे ८, १६) । सहडामुह न [शःश्टामुख] वैताल्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक) । सहण त्र [°द] सह, साथ में (सूत्र० चूखि० गा० २५७) । सहण न [सहण] १ तितिक्षा, मर्षण । २ वि नहिण्यु, सहन करनेवाला (स २६) । सहर पुत्रो [शफर] मत्स्य, मछली (पात्र, गउड) । स्त्री °रि (हे १, २३६, गउड) । सहर वि [°र] माहाय्य-कर्ता, सहाय, न तल्प माया न विद्या न भाषा, कालमि तम्मि (११मी) सहरा भवति (वि ४३) । सहल वि [नफल] फल-युक्त, सायक (उप १०३, टी, हे १, २३६, कुमा, स्वप्न १६) ।

सहस देखो सहस्स (आ ४४, वि ६२, ६६) । °किरण पु [°किरण] सूर्य, रवि (सम्मत् ७६) । °कख पु [°क्ष] १ इन्द्र (सुपा १३०) । २ रावण का एक योद्धा (पत्रम ५६, २६) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

सहसकार पु [सहसाकार] १ विचार किए बिना करना (भाचा) । २ आकस्मिक क्रिया, अकस्मात् करना (भग २५, ७—पत्र ६१६) । ३ वि विचार किए बिना करनेवाला (भाचा) ।

सहसत्ति अ अकस्मात्, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त (पात्र, प्राक ८१) ।

सहसा अ [सहसा] अकस्मात्, शीघ्र, जल्दी (पात्र, प्रासू १५१, भवि) । °वितासिय न [°वितासित] अकस्मात् स्त्री के नेत्र-स्थ-गन आदि झोडा (उत्त १६, ६) ।

सहस पुन [सहस] १ सख्या-विशेष, दस सौ, १००० । २ वि हजार की सख्यावाला (जी २७, ठा ३, १ टी—पत्र ११६, प्रासू ४, कुमा) । ३ प्रभुर, बहुत (कण्, भावम, हे २, १६८) । °किरण पु [°किरण] १ सूर्य, रवि (सुपा ३७) । २ एक राजा (पत्रम १०, ३४) । °कख पु [°क्ष] इन्द्र, देवाधिपति (कण्, उत्त ११, २३) । °णयण, °नयण पु [°नयण] १ इन्द्र (उव, हम्मोर ५, महा) । २ एक विद्याधर राज-कुमार (पत्रम ५, ६७) । °पत्त अ [°पत्र] हजार दन-वाला कमल (कण्) । °पाग पुन [°पाक] हजार शोषधि से वनता एक प्रकार का तैल (आया १, १—पत्र १६, ठा ३, १—पत्र ११७) । °रस्सि पुं [°रश्मि] सूर्य, रवि (आया १, १—पत्र १७, भग, रयण ८३) । °लोचण पु [°लोचन] इन्द्र (स ६२२) । °सिर वि [°शिरस] १ प्रभूत मस्तक-वाला । २ पु विष्णु (हे २, १६८) । °वत्त देखो °पत्त (से ६, ३८, सुपा ४६) । °सो अ [°शस] हजार-हजार, अनेक हजार (आ १२) हा अ [°धा] सहस्र प्रकार से (सुपा ५३) । °हुत्त अ [°हुत्त्वस] हजार वार (प्रात्र, हे २, १५८) । देखो सहस, सहास ।

सहससचवण न [सहस्राचवण] एक उद्यान, आम के प्रभूत पेड़ोंवाला वन (आया, १, ८—पत्र १५२, अत, उवा) ।

सहस्सार पु [सहस्सार] १ आठवँ देवलोक (सम ३५, भग, अत) । २ आठवँ देवलोक का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ एक । देस विमान (देवेन्द्र १३५) । °वडिसय पुन [°वत्तस] एक देव-विमान (सम ३५) । सहा स्त्री [सभा] समिति, परिषत् (कुमा, स १२६, ५१६, सुपा ३८४) । °सय वि [°सद] सम्य, मदस्य (पात्र, स ३८५) । सहा देखो साहा = शाहा (गा २३०) ।

सहाअ देखो स-हाअ = स्व-भाव । सहाअ पु [सहाअ] साहाय्य-कता (आया १, २—पत्र ८८, पात्र, से ३, ३, स्वप्न १०६, महा, भग) ।

सहाइ वि [साहाय्यिन्] ऊपर देखो (तिरि ६७, सुपा ५६३) ।

सहाइया स्त्री [सहायिका] मदद करनेवाली (उवा) ।

सहार देखो सह-र = सह-कार ।

सहाय देखो स-हाय = स्व-भाव ।

सहास देखो सहस्स (भवि) । °हुत्तो अ [°हुत्त्वस] हजार वार (वड) ।

सहासय देखो सहा सय = समा-सद ।

सहि वि [सखि] मित्र, दोस्त (पात्र, उर २, ६) । देखो सही ।

सहि° देखो सही (कुमा) ।

सहिअ वि [सोड] सहन किया हुआ (से १, ५५, धात्वा १५५) ।

सहिअ वि [सहित] १ युक्त, समन्वित (उव; कुमा, सुपा ६१) । २ हित-युक्त (सूत्र १, २, २, २३) । ३ पु. ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

सहिअ पु [सभिक] द्यूत-कारक, जुआ खेलनेवाला (दे ६, ४२, पात्र, सुपा ४८८) ।

सहिअ देवो सहिअ = स्व हित ।

सहिअ देखो सह = सह ।

सहिअ } वि [सहदय] १ युद्ध चित्त-सहिअय } वाला । २ परिपक्व बुद्धिवाला (हे १, २६६, दे १, १, काप्र ५२१) ।

समीहिय वि [समीहित] इष्ट, वाञ्छित (महा) ।

समीहिय देखो समिक्खिअ (वव ३) ।

समुआचार पु [समुदाचार] समीचीन आचरण (दे २, ६४) ।

समुइअ वि [समुचित] योग्य, उचित (से १३, ६८, महा) ।

समुइअ वि [समुदित] १ परिवृत, 'गुण-समुद्धो' (उव, स २८६) । २ एकत्रित (विसे २६२४) ।

समुइन्न वि [समुदीर्ण] उदय-प्राप्त (सुपा ६१४) ।

समुइर देखो समुदीर । कर्म 'जह बुद्धगाण मोहो समुइरइ किनु तरुणाण' (गच्छ ३, १५) ।

समुक्कस देखो समुक्करिस (उत्त २३, ८८) ।

समुक्कत्तिय वि [समुत्कर्तित] काट डाला हुआ (सुर १४, ४५) ।

समुक्करिस पु [समुत्कर्ष] अतिशय उत्कर्ष (उत्त २३, ८८, सुख २३, ८८) ।

समुक्कस सक [समुत् + कृप्] १ उत्कृष्ट बनाना । २ अक गर्व करना । समुक्कसेआ (ठा २, १—पत्र १७७), समुक्कसति (प्रासू १६५) ।

समुक्कट्ट वि [समुत्कृष्ट] उत्कृष्ट (ठा ३, १—पत्र ११०) ।

समुक्कत्तण न [समुत्कीर्तन] उच्चारण (सुपा १४६) ।

समुक्कणअ वि [समुत्तजान] उलाढा हुआ (गा २७६) ।

समुक्कणण सक [समुत् + खन्] उलाड़ना । समुक्कणणइ (गा ६८४) । वट्ट, समुक्कणणत (सुपा ५४१) ।

समुक्कणण न [समुत्तजन] उन्मूलन, उत्पादन (कुप्र १७४) ।

समुक्कित्त वि [समुत्क्षित] उठा कर फेंका हुआ (ने ११, ७२) ।

समुक्कित्त सक [समुत् + क्षिप्] उठा कर फेंकना । समुक्कित्तवइ (पि ३१६, सण) ।

समुग्ग पु [-सुद्] १ उड्डा, संपुट (सम ६३, १७, साया १, १७ दी, पमवि १५,

श्रीप, पण ३६—पत्र ८३७, महा) । २ पक्षि-विशेष (जी २२, डा ४, ४—पत्र २७१) ।

समुग्गट (शौ) वि [समुद्गत] समुद्भूत, समुत्पन्न (नाट—मालती ११६) ।

समुग्गम पु [समुद्गम] समुद्भव (नाट—रत्ना १३) ।

समुग्गिअ वि [दे] प्रतीक्षित (दे ८, १३) ।

समुग्गिण वि [समुद्गीर्ण] उगामा हुआ, उत्तोलित, ऊपर उठाया हुआ (पउम १५, ७४) ।

समुग्गिर सक [समुद् + गृ] ऊपर उठाना, उगामना । वट्ट, समुग्गिरत (पउम ६५, ४८) ।

समुग्गडिअ वि [समुद्घाटित] खुला हुआ (धर्मवि १५) ।

समुग्गइअ वि [समुद्घातित] विनाशित (प्रासू १६५) ।

समुग्गघाय पु [समुद्घात] कर्म-निर्जरा विशेष, जिम समय आत्मा वेदना, कपाय आदि से परिणत होता है उस समय वह अपने प्रदेशो को बाहर कर उन प्रदेशो से वेदनीय, कपाय आदि कर्मों के प्रदेशो की जो निर्जरा—विनाश करता है वह, ये समुद्घात सात हैं—वेदना, कपाय, मरण, वैश्लिय, तैजस, आहारक और केवलिक (पण ३६—पत्र ७६३, भग, श्रोप, विसे ३०५०) ।

समुग्गघायण न [समुद्घातन] विनाश (विसे ३०५०) ।

समुग्गघुट्ट वि [समुद्घोषित] उद्घोषित (सुर ११, २६) ।

समुग्घाय देता समुग्घाय (द ३) ।

समुच्चय पु [समुच्चय] विशिष्ट राशि, ढग, समूह (भग ८, ६—पत्र ३६५, भवि) ।

समुच्चर सक [समुत् + चर्] उच्चारण करना, बोलना । समुच्चरइ (वेदय ६११) ।

समुच्चरिअ वि [समुच्चरित] उना हुआ (उव पु ८८, भवि) ।

समुच्चिण सक [समुत् + चि] रगड़ा करना, सपय करना । समुच्चिणण (गा १०३) ।

समुच्चिय वि [समुच्चित] एक क्षिा नर में प्रन्वित (विसे ५७६) ।

समुच्चक सक [समुत् + छिद्] १ उन्मूलन करना, उखाड़ना । २ दूर करना । समुच्चे (सूत्र १, २, ३, १३) । नवि समुच्चिण (सूत्र २, ५, ४) । वट्ट, समुच्चिण (सूत्र २, ४, १०) ।

समुच्चइय वि [समवच्छादित] नय आच्छादित (पउम ६३, ७) ।

समुच्चणी खी [दे] समानो, समूह (दे ८, १७) ।

समुच्चल सक [समुत् + गल] १ उजलना, ऊपर उठना । २ विस्तारण (सुर २, २३६) ।

समुच्चलिअ वि [समुच्चलित] १ उठा हुआ । २ विस्तारण (गच्छ १, ६, महा) ।

समुच्चारण न [समुत्सारण] दूर करना (अभि ६०) ।

समुच्चिअ वि [दे] १ तोषित, समुत्त हुआ । २ तमारचित । ३ न धारित नमन (दे ८, ४६) ।

समुच्चिअ (शौ) वि [समुच्चित] उन्नत (पि २८७) ।

समुच्चिअ वि [समुच्चित] विनष्ट (ठा ४, १ पत्र—१८७) ।

समुच्चिअ वि [समुच्चित] धरत चढा हुआ (एम्भोर १५) ।

समुच्चिअ वि [समुच्चित] प्रविष्ट (सुर २, २१५, ४, १७७) ।

समुच्चिअ } पु [समुच्चित] समुच्चिअ } (ठा ८—पत्र ३२५, ४५) ।

समुच्चिअ वि [समुच्चित] सर्वथा विनष्ट माननेवाला (ठा ८—पत्र ४२५, रात) ।

समुच्चम सक [समुत् + चम] उन्नत करना । वट्ट, समुच्चम (पउम १०, ७६, वेदय १४०) ।

समुच्चम पु [समुच्चम] १ उन्नत करना । २ वि. समीचीन उगमना (गा १०३, १०३) ।

समुच्चम वि [समुच्चम] उन्नत करना (पउम १०, ७६) ।

साउणिअ वि [शाकुनिक] १ पक्षि-घातक, पक्षियो के बध का काम करनेवाला (परह १, १, २—पत्र २६, अणु १२६ टि, विपा १, ८—पत्र ८३)। २ शकुन शब्द का जानकार (सुपा २६७, कुप्र ५)। ३ श्येन पक्षी द्वारा शिकार करनेवाला (अणु १२६ टि)।

साउय देखो साउग (राज)।

साउय वि [सायुप्] आयुवाला, प्राणी (ठा २, १—पत्र ३८)।

साउल वि [सकुल] व्याप्त, भरपूर (सुर १०, १८)।

साउलय वि [साकुलत] आकुलता युक्त, व्याकुल, व्यथ, 'इदियसुहसाउलयो परिहिडई सोवि ससारें' (पउम १०२, १६७)।

साउली लो [दे] १ वज्राञ्जल (गा २६६)। २ वज्र, कपडा (गा ६०५)। देखो साहुली।

साउल्ल पु [दे] अनुराग, प्रेम (हे ८, २४, पड)।

साएज्ज देखो साइज्ज। साएज्जइ (अवि ११, २)।

साएय न [साकेत] अयोध्या नगरी (इक, सुपा ५५०, पि ६३)। 'पुर न [पुर] वही अर्थ (उप ७२८ टी)। 'पुरी लो [पुरी] वही (पउम ४, ४)। देखो साकेय।

साएया ली [साकेता] अयोध्या नगरी (पउम २०, १०, खाय १, ८—पत्र १३१)। सातवण न [सान्तपन] व्रत-विशेष (प्रबो ७३)।

साक देखो साग (दे ६, १३०)।

साकेय न [साकेत] १ नगर-विशेष, अयोध्या (सो ११)। २ वि गृहस्थ-संन्यो। ३ न प्रत्याख्यान विशेष (पव ४)।

साकेय वि [साङ्केत] १ सकेत का, सकेत-सन्न्यो। २ न प्रत्याख्यान का एक भेद (पव ४)।

साग पु [शाक] १ वृक्ष-विशेष (पउम ४२, ७, दे १, २७)। २ तरु-सिद्ध वडा प्रादि खाय, 'सागो सो तमकसिद्ध ज' (पव २५६)। ३ शाक, तरकारी (पि २०२, ३६४)।

सागडिअ वि [शाकटिक] गाडीवान, गाडी चला कर निर्वाह करनेवाला (सुर १६, २२३, स २६२, उत ५, १४, आ १२)। सागय न [स्वागत] १ शोभन आगमन, प्रशस्त आगमन (भग)। २ अतिथि-सत्कार, आदर, बहु-मान (सुपा २५६)। ३ कुशल (कुपा)।

सागर पु [सागर] १ समुद्र (परह १, ३—पत्र ४४, प्रासु १३४)। २ एक राज-पुत्र (उप ६३७)। ३ राजा अन्वकवृष्णि का एक पुत्र (अत ३)। ४ एक वणिक्-व्यापारी (उप ६४८ टी)। ५ सातवें बलदेव तथा नासुदेव के पूर्व भव के धर्म-पुत्र (सम १५३)। ६ पुन कूट-विशेष (इक)। ७ समय-परिमाण-विशेष, दश कोटकोटि-पल्लोपम-परिमित काल (नव, ६, जी ३६, पव २०५)। ८ एक देव-विमान (सम २)। 'कत पुन [कान्त] एक देव-विमान (सम २)। 'चद पु [चन्द्र] १ एक जैन आचार्य (काल)। २ एक व्यक्तिवाचक नाम (उव, पडि, राज)। 'चित्त पुन [चित्र] कूट-विशेष (इक)। 'दत्त पु [दत्त] १ एक जैन मुनि (सम १५३)। २ तीसरे बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३)। ३ एक श्रेष्ठि-पुत्र (महा)। ४ एक सार्थवाह का नाम (विपा १, ७)। ५ हरिषेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा ४४)। 'दत्ता ली [दत्ता] १ भगवान् धर्मनाथजी की दीक्षा-शिबिका (सम १५१)। २ भगवान् विमलनाथजी की दीक्षा-शिबिका (विचार १२६)। 'देव पु [देव] हरिषेण चक्रवर्ती का एक पुत्र (महा)। 'वूह पु [व्यूह] सैन्य की रचना विशेष (महा)। देखो सायर = सागर।

सागरिअ देखो सागारिय (पिड ५६८, पव ११२)।

सागरोवम पुन [सागरोपम] समय-परिमाण विशेष, दश-कोटकोटि-पल्लोपम-परिमित काल (ठा २, ४—पत्र ६०, सम २, ८, ९, १०, ११, उव, पि ४४८)।

सागार वि [साकार] १ आकार-सहित, आकृतिवाला। २ विशेषाश को ग्रहण करने की शक्ति, विशेष ग्रहण, ज्ञान (ओप, भग,

सम्म ६५)। ३ अणुवाद-युक्त (भग ७, २—पत्र २६५, उप ७२८ टी)। 'परिसि वि [दर्शिन्] जानवाला (परण ३०—पत्र ७५६)।

सागार वि [सागार] गृह-युक्त, गृहस्थ (आवम)।

सागारि } वि [सागारिन्, 'रिक] १ सागारिय } गृह का मालिक, उपाश्रय का मालिक, साधु को स्थान देनेवाला गृहस्थ, शय्यातर (पिड ३१०, आचा २, २, ३, ५, सूत्र १, ६, १६, ओप १६६)। २ सूतक, प्रसव और मरण की अशुद्धि, अशौच (सुम १, ६, १६)। ३ गृहस्थ से युक्त, 'सागारिए उवसए' (आचा २, २, १, ४, ५)। ४ न. मैथुन (आचा १, ६, १, ६)। ५ वि. शय्यातर गृहस्थ का, उपाश्रय के मालिक से संबन्ध रखनेवाला, 'सागारिय पिड भुजेदारो' (सम ३६)।

सागेय देखो साकेय = साकेत (खाय १, ८—पत्र १३१, उप ७२८ टी)।

साड सक [शाटय, शातय] सजाना, विनाश करना। हेक. साडेत्तए (विपा १, १—पत्र १६)।

साड पु [शाट, शात] १ शाटन, विनाश (विसे ३३२१)। २ शाटक, उत्तरीय वज्र, चहर (पव ३८)। ३ वज्र, कपडा, 'एगसाडे अदुवा अचेलें' (आचा, सुपा ११)।

साडअ } पुन [शाटक] वज्र, कपडा (सुपा साडग } १५३, राज)।

साडण न [शाटन, शातन] १ विचारण, विनाश (विसे ३३१६, स ११६)। २ छेदन (सूत्रनि ७२)।

साडणा ली [शाटना, शातना] खण्ड-खण्ड होकर गिराने का कारण, विनाश-कारण (विपा १, १—पत्र १६)।

साडिअ वि [शाटित, शातित] सडाकर गिराया हुआ, विनाशित (सुर १५, ३, दे ७, ८)।

साडिआ ली [शाटिका] वज्र, कपडा (ओप, कप)।

साडिअ देखो साड = शाट, 'नियसियम्राजाणु-मलियमाडिअ' (सुपा ११)।

समुद्गणवणीअ न [दे समुद्रनवनीत] १
प्रमृत, सुधा । २ चन्द्रमा (दे ८, ५०) ।

समुद्भव सक [समुद् + द्रावय्] १
भयकर उपद्रव करना । २ मार डालना ।
समुद्भवे (गच्छ २, ४) ।

समुद्दहर न [दे] पानीय-गृह पानी-घर (दे
८, २१) ।

समुद्दाम वि [समुद्दाम] अति उदाम, प्रखर,
“शुई समुद्दामसद्वेण” (चैद्य ६५०) ।

समुद्दिस सक [समुद् + दिश्] १ पाठ
को स्थिर-परिचित करने के लिए उपदेश
देना । २ व्याख्या करना । ३ प्रतिज्ञा करना ।
४ आश्रय लेना । ५ अघिकार करना । कर्म
समुद्दिसद् (उवा), समुद्दिसज्जति (अणु
३) । संक. समुद्दिस (आचा १, ८, २,
१, २, २, १, ४, ५) । हेक समुद्दिसत्तए
(ठा २, १—पत्र ५६) ।

समुद्देश पु [समुद्देश] १ पाठ को स्थिर-
परिचित करने का उपदेश (अणु ३) । २
व्याख्या, सूत्र-के अर्थ का अध्यापन (वव १) ।
३ ग्रथ का एक विभाग, अव्ययन, प्रकरण,
परिच्छेद (पउम २, १२०) । ४ भोजन,
‘जत्य समुद्देशकाले’ (गच्छ २, ५६) ।

समुद्देश वि [सामुद्देश] देखो समुद्देशिय
(पिड २३०) ।

समुद्देशण न [समुद्देशण] सूत्रों के अर्थ का
अध्यापन (एदि २०६) ।

समुद्देशिय वि [समुद्देशिक] १ समुद्देश
सम्बन्धी । २ विवाह आदि के उपलक्ष्य में
किये गये जोमान में बचे हुए वे दास्य पदार्थ
जिनको नव साधु सन्यासियों ने बाँट देने का
सवत्न किया गया हो (पिड २२६) ।

समुद्दर सक [समुद् + दृ] १ मुक्त करना ।
२ जोड़ें मंदिर आदि को ठीक करना ।
ममुद्दरइ (प्राप् ५) । वरु समुद्दरत (मुपा
४७०) । वरु समुद्दरेऊण (सिक्का ६०) ।
रेक समुद्दरुं (उन २५, ८) ।

समुद्दरण न [समुद्दरण] १ उच्चार । २ वि.
उच्चार करनेवाला (सण) ।

समुद्दरिच वि [समुद्दरुच] उच्चार प्राप्
(गा ५६३, सण) ।

समुद्दाइअ वि [समुद्दाचित] समुत्थित,
उठा हुआ (स ५६६, ५६७) ।

समुद्दाय भक [समुद् + धाव्] उठना ।
वरु समुद्दायत (परह १, ३—पत्र ४५) ।

समुद्दिरिअ देखो समुद्दरिअ (गच्छ ३, २६) ।
समुद्दधुर वि [समुद्दधुर] दृढ, मजबूत (उप
१४२ वी) ।

समुद्दधुसिअ वि [समुद्दधुपित] पुलकित,
रोमाञ्जित, ‘घणामे कयवकुसुम व समुद्दधु-
(दधु)सिय सरोर’ (कुप्र २१०, स १८०,
घर्मवि ४८) ।

समुद्द्र पु [समुद्द्र] १ एक देव विमान (देवेन्द्र
१४३) । २ देखो समुद्द्र (हे २, ८०) ।

समुद्द्रइ वी [समुद्द्रति] अम्युदय (सावं
८२) ।

समुद्द्रवि वि [समुद्द्रवि] सनद, सज,
‘ज नमिया सयलनिवा

जिणस्स अचंतवलसमुद्द्रा ।

तेण निजएण रत्ता

नमिचि नाम विण्णिम्मविय’

(चैद्य ६१३) ।

समुद्द्रय वि [समुद्द्रय] अति ऊँचा (महा) ।

समुद्द्रेह सक [समुद्द्रेह + ईक्ष्] १ अचछी
तरह देखना, निरीक्षण करना । २ पर्यालोचन
करना, विचार करना । वरु समुद्द्रेहमाण
(सूत्र १, १३, २३) । वरु समुद्द्रेहिया,
ममुद्द्रेहियाण (दस ७, ५५, महा) ।

समुद्द्रेज्ज भक [सपुत् + पट्] उत्पन्न
होना । समुद्द्रेज्ज (भग, महा) । समुद्द्रेज्जा
(कप्प) । भूका समुद्द्रेज्जिया (भग) ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेण] उत्पन्न (वि
समुद्द्रेण) १०२, भग, वसु) ।

समुद्द्रेणण न [समुद्द्रेणण] ऊँचा जाना,
ऊँच-गमन, उद्यम (मउड) ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेणण] उत्पत्ति-नतां
(गा १८८) ।

समुद्द्रेणण सक [समुद्द्रेणण] उत्पन्न
करना । ममुद्द्रेणण (उत्त २६, ७६) ।

समुद्द्रेणण पु [समुद्द्रेणण] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव
(सूत्र १, २, ३, १—आचा) ।

समुद्द्रेणण न [दे] प्रयत्न, प्रयत्नीन । २
रज, धृति (८, ५०) ।

समुद्द्रेणण वि [दे] उत्पत्त, उत्पन्न (उ
१३, ४४) ।

समुद्द्रेणण } समुद्द्रेण । वरु समुद्द्रेण
समुद्द्रेण } माण, समुद्द्रेणमाण (उ
आचा १, ४, ४, ४) । वरु समुद्द्रेण (उ
७, ३) । देखो समुद्द्रेण ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेणण] उच्चर स-
वाता, ‘पहए जयसिरिसमुद्द्रेणण ममपु’
(स २२) ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेणण] प्राप्त्त
(भवि) ।

समुद्द्रेणण सक [समा + कम्] प्राप्त्त
करना । वरु समुद्द्रेणण (स ५, ८) ।

समुद्द्रेणण न [समुद्द्रेणण] प्राप्त्त
(पउम ६, १८०) ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेणण] प्रवृत्त (स
१०२) ।

समुद्द्रेणण भक [समुद्द्रेणण + भू] उत्पन्न
समुद्द्रेणण (उपप २५) ।

समुद्द्रेणण पु [समुद्द्रेणण] उत्पत्ति (उ
भवि) ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेणण] ऊँचा (महा) ।
(मुपा ८८, भवि) ।

समुद्द्रेणण (सण) नांचे देणो (सण) ।

समुद्द्रेणण वि [समुद्द्रेणण] उत्पन्न (स
४७६, सु २, २३५, मुपा २३५) ।

समुद्द्रेणण देणो समुद्द्रेणण = समुद्द्रेणण (सि
१, २—पत्र २५, पोप १८८) ।

समुद्द्रेणण देणो समुद्द्रेणण = समुद्द्रेणण । २६
समुद्द्रेणणित (मुप ३, १) ।

समुद्द्रेणण देणो समुद्द्रेणणित (सि
२, २—पत्र २५, पोप १८८) ।

समुद्द्रेणण सक समुद्द्रेणण (सि
२, २—पत्र २५, पोप १८८) ।

समुद्द्रेणण सक समुद्द्रेणण (सि
२, २—पत्र २५, पोप १८८) ।

समुद्द्रेणण सक समुद्द्रेणण (सि
२, २—पत्र २५, पोप १८८) ।

समुद्द्रेणण सक समुद्द्रेणण (सि
२, २—पत्र २५, पोप १८८) ।

सामइअ देखो सामाइअ (विसे २६२४, २६३२, २६३४, २६३६) ।

सामइअ } पु [सामयिक] १ एक गृहस्थ
सामइग } का नाम (सुअनि १६?) । २
वि समय-सम्बन्धी (पत्र ५, १६६) । ३
सिद्धान्त का जानकार (पिडभा ६) । ४
आगम आश्रित, सिद्धान्त-आश्रित (ठा ३,
३—पत्र १५१) । ५ बौद्ध विद्वान् (दसनि
४, ३५) ।

सामइग देखो सामाइअ (विसे २७१६) ।

सामइगि वि [सामायिकिन्] सामायिक-
वाला (विसे २७१६) ।

सामत पुन [सामन्त] १ निकट, समीप, पास,
'तत्स ए अद्वरसामते' (एयाया १, २—पत्र
७८, उवा, कप्प) । २ पुं अपील राजा
(महा, काल) । ३ अपने देश के अनन्तर देश
का राजा, समीप देश का राजा (कप्प) ।

सामती स्त्री [दे] सम-भूमि (दे ८, २३) ।

सामतोवणिवाइय न [सामन्तोपनिपातिक]
अभिनय का एक भेद (राय ५४) ।

सामतोवणिवाइया स्त्री [सामन्तोपनिपा-
सामतोवणीआ } तिकी] क्रिया-विशेष,
चारो तरफ से इकट्ठे हुए जन-समुदाय में
होनेवाली क्रिया—कर्म वन्ध का कारण (ठा
२, १—पत्र ४०, नव १८) ।

सामतोवायणिय पुन [सामन्तोपपातनिक]
अभिनय-विशेष (ठा ४, ४—पत्र २८५) ।

सामकर देखो समरुत्त, सभरिय चिय वयण,
'जत अणारएणमित्तसामकळं। मणिय अइयकाले'
(पउम १०, ८४) ।

सामग देखो सामय = श्यामाक (राज) ।

सामग्ग सक [शिलपू] आलिङ्गन करना ।
गामग्गइ (हे ४, १६०) ।

सामग्ग } न [सामग्ग] सामग्री, सपू-
सामग्गअ } णंता, सकलता (से ६, ४७,
आचा २, १, १, ६, महा) ।

सामग्गिअ वि [शिलपू] आलिङ्गित (कुमा) ।

सामग्गिअ वि [दे] १ चलित । २ अ-
लम्बित । ३ पालित, रक्षित (दे ८, ५३) ।
११२

सामग्गी स्त्री [सामग्गी] १ समस्तता । २
कारण-समूह (सम्मत्त २२४, महा, कप्प,
रंभा) ।

सामच्छ सक [दे] मन्त्रणा करना, पर्या-
लोचन करना । सक सामच्छिऊण (पउम
४२, २५) ।

सामच्छ न [सामच्छ] समर्थता, शक्ति (हे
२, २२, कुमा) ।

सामच्छण देखो सामत्थण (राज) ।

सामज्ज न [साम्राज्य] सार्वभौम राज्य,
बड़ा राज्य (उप ३५७ ठी) ।

सामण } वि [आमण, णिक] अमण-
सामणिय } संबन्धी (राज) ।

सामणिय देखो सामण्ण = आमण्य (सुअ १,
७, २३, दस ७, ५६) ।

सामणेर पु [आमणि] अमण का अपत्य,
साधु की सतान (सुअ १, ४, २, १३) ।

सामण्ण न [आमण्य] अमणता, साधुपन
(भग, दस २, १, महा) ।

सामण्ण पु [सामान्य] १ अणुपत्री देवो
का एक इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ न.
वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध सत्ता पदार्थ (धर्मस
२५६) । ३ वि साधारण (गा ८६१,
६६६, नाट—रत्ना ८१) ।

सामत्थ देखो सामच्छ (दे) । सक सामत्थे-
ऊण (काल) ।

सामत्थ देखो सामच्छ = सामर्थ्य (हे २,
२२, कुमा, ठा ३, १—पत्र १०६, सुपा
२८२, प्रासू १४४) ।

सामत्थ } न [दे] पर्यालोचन, मन्त्रणा,
सामत्थण } 'कास हुरामोत्ति अज्ज दव्व
इति सामत्थ करंति गुज्ज' (पएह १, ३—
पत्र ४६, पिड १२१, बृह १) ।

सामन्न देखो सामण्ण = आमण्य (भग, कप्प,
सुर १, १) ।

सामन्न देखो सामण्ण = सामन्य (उव, स
३२५, धर्मवि ५६, कम्म १, १०, ३१) ।

सामय सक [प्रति + ईक्ष्] प्रतीक्षा करना,
वाट जोहना (हे ४, १६३, षड्) ।

सामय पु [श्यामाक] धान्य-विशेष, सावा (हे
१, ७१, कुमा) ।

सामरि पुत्री [दे शाल्माल] शाल्मली वृक्ष,
सेमर का पेड़ (दे ८, २, पात्र) ।

सामरिस वि [सामरि] ईर्ष्यालु, असहिष्णु
(सुर २, ६०) ।

सामल वि [श्यामल] १ काला, कृष्ण वर्ण-
वाला (से १, ५६, सुर ३, ६५, कुमा) । २
पु एक वणिग्—वनिया (सुपा ५५५) ।

सामलइअ वि [श्यामलित] काला किया
हुआ (से ८, ६६) ।

सामलय वि [श्यामलक] १ काला । २
काला पानीवाला (से १, ५६) । ३ पुं.
वनस्पति-विशेष (राज) ।

सामला स्त्री [श्यामला] १ कृष्ण वर्णवाली
स्त्री । २ सोलह वर्ष की स्त्री, श्यामा (वजा
११२) ।

सामलि पुत्री [शाल्मलि] सेमल का गाछ
(सुअ १, ६, १८, उव, औप) ।

सामलिय देखो सामलइअ (सुर ४, १२७) ।

सामली देखो सामला (गउड, गा १२३,
२३८, ७६४, सुपा १८५) ।

सामलेर पुं [शाबलेय] काबरचित गौ—चित-
कबरी गाय का वत्स (अणु २१७) ।

साम स्त्री [श्यामा] १ तेरहवें जिनदेव की
माता (सम १५१) । २ तृतीय जिनदेव की
प्रथम शिष्या (सम १५२) । ३ रात्रि, रात
(सुअ २, १, ५६, से १, ५६, औष ३८७) ।
४ शक्र की एक अग्र-महिषी—पटरानी (पउम
१०२, १५६) । ५ प्रिययु वृक्ष (पएण १—
पत्र ३३, १७—पत्र ५२६, अनु ४) । ६
एक महौषधि (ती ५) । ७ लता-विशेष,
साम-लता (औप) । ८ सोम लता (से १,
५६) । ९ नारी, स्त्री (से १, ५६, अणु
१३६) । १० श्याम वर्णवाली स्त्री (कुमा) ।
११ सोलह वर्ष की उन्नवाली स्त्री (वज्जा
१०४) १२ सुन्दर स्त्री, रमणी (से १, ५६,
गउड) । १३ यमुना नदी । १४ नील का
गाछ । १५ गुग्गुल का गाछ । १६ युद्धी,
गला । १७ गुन्दा । १८ कृष्णा । १९
अम्बिका । २० कस्तूरी । २१ वटपत्री । २२
वन्दा की लता । २३ हरी पुनर्नवा । २४
पिपली का गाछ । २५ हरिद्रा, हल्दी ।
२६ नील दुर्वा । २७ तुलसी । २८ पचवीज ।

उत्तरना । ३ जन्म-ग्रहण करना । समोअरइ
(अणु २४६, उव, विने ६४५), समोअरति
सुप्र २, २, ७६, अणु ५६) ।

समोआर पुं [समवतार] अन्तर्भाव (अणु
२४६) ।

समोअन्न वि [समवतीर्ण] नीचे उतरा
हुआ (सुर ७, १३४) ।

समोआढ वि [समवगाढ] सम्यग अवगाढ
(श्रौप) ।

समोअद्भुत वि [समवच्छादित] आच्छादित,
अतिशय ढका हुआ (सुर १८,
१५७) ।

समोणम सक [समव+नम्] सम्यग्
नयना—नीचा होना । वहु समोणमत
(श्रौप, सुर ६, २३७) ।

समोणय वि [समवन्त] अति नमा हुआ
(गा २=२) ।

समोत्थइअ वि [समवस्थगत] आच्छादित,
(से ६, ८४) ।

समोत्थय वि [समवस्तुत] ऊपर देखो (उप
७७३ टी) ।

समोत्थर सक [समव + स्तु] ? आच्छादन
करना, ढकना । २ आक्रमण करना । वहु,
समोत्थरत (आया १, १—पत्र २५,
पत्रम ३, ७८) ।

समोयार पुं [समवतार] अन्तर्भाव, समावेश
(विसे ६५६, अणु) ।

समोयारणा घी [समवतारणा] अन्तर्भाव
(विसे ६७३) ।

समोयारिय वि [समवतारित] अन्तर्भावित,
समावेशित (विसे ६५६) ।

समोल्दय वि [दि] समुत्प्लित (गउड) ।

समोल्गुग वि [समवरुग्] रोगी, रोग-ग्रस्त
(से ३, ४७) ।

समोवअ सक [समव+पन्] ? सामने
थाना । २ नीचे उतरना । वहु समोवयन,
समोवयमाण (स ३३६ ३३०) ।

समोवइअ वि [समवपत्ति] नीचे उतरा
हुआ (आया १, १६—पत्र २३३) ।

समोसइअ वि [समवस्तु] समागत,
समोसउ } पपारा हुआ (मन्मत ३२०)

पि ६७, भग, आया १, १—पत्र ३६,
श्रौप, सुपा ११) ।

समोसर सक [समव + स्तु] ? पधारना,
आगमन करना । २ नीचे गिरना । समोसरेजा
(श्रौप, पि २३५) । हेऊ समोसरिउ° (श्रौप) ।
वहु समोसरत (से २, ३६) ।

समोसर अक [समप+स्तु] ? पीछे हटना ।
२ पलायन करना । समोसरइ (काप्र १६६),
समोसर (हे २, १६७) । वहु समोसरत
(गा १६०) ।

समोसरण पुन [समवसरण] ? एकत्र
मिलन, मेलापक, मेला (सुप्रनि ११७, राय
१३३) । २ समुदाय, समगय, समूह,
'समोसरण निचय उवचय चए य जुम्मे य
रामो य' (श्रौव ४०७) । ३ साधु समुदाय,
साधु-समूह (पिंड २८५, २८८ टी) । ४
जहाँ पर उदभव आदि के प्रसंग में अनेक साधु
लोग इकट्ठे होते हो वह स्थान (सम २१) ।
५ परतीर्थिकों का समुदाय, जैनतर दाशनिकों
का समवाय (सुप्र १, १२, १) । ६ धर्म-
विचार, आगम-विचार (सुप्र २, २, ८१,
८२) । ७ 'सुवकृताङ्ग सूत्र' के प्रथम श्रुतस्तक
का वारहवाँ अध्यायन (सुप्रनि १२०) । ८
पधारना, आगमन (उवा, श्रौप, विपा १,
७—पत्र ७२) । ९ तीर्थकर-देव की पर्वद ।
१० जहाँ पर जिन-भगवान् उपदेश देने हैं
वह स्थान (आवम, पचा २, १७, ती ४३) ।
११ तव पु [तपस्] तप-विशेष (पत्र
२७१) ।

समोसरिअ वि [समपस्तु] ? पीछे हटा
हुआ (गा ६५६, पत्रम १२, ६३) । २
पलायित (से १०, ५) ।

समोसरिअ वि [समवमृत] समायात,
समागत (ने ७, ११—उवा) ।

समोसरण सक [दि] दुःख दुःख करना ।
समोसरति (नृप १, १, २, ८) ।

समोसिअ अक [समव + सदु] अणु होना,
नाश पाना, नष्ट होना । वहु, समोसिअत
(से ८, ७) ।

समोसिअ पु [दि] ? प्राणितिक, पञ्चमी
(१८, १६, पाम) । २ प्राणितिक, पञ्चमी
तत्त्व, पञ्च वेद (से ८, १६) ।

समोहण सक [समुद् + हन्] समुद्भव
करना, आत्म-अवेशों को गहर निवान हा
उतने कर्म-निर्जरा करना । समहण
समोहणति (कल्प, श्रौप, पि ४६६) । वहु,
समोहणित्ता (भग, कल्प, श्रौप) ।

समोहय वि [समुद्भव] चित्तने मनुदक
किया हो वह (ठा २, २—पत्र ६१) ।

समोहय नि [समवहत] प्राणात प्रान्त (गु
७, २८) ।

सम्म अक [श्रम्] ? लेद पाना । २ दत्ता ।
सम्मइ (उत्त १ ३७) ।

सम्म अक [श्रम्] शान्त हाता, ब्रह्म
होना । सम्मइ (वादा १५५) ।

सम्म न [शर्मन] सुप (हे १, ३२, गुण) ।

सम्म वि [सम्यक्] ? मत्त्व, तदा (नृप
१, ८, २३, कल्प, सम्म ८७ वगु) । २
अविपरीत, अतिक्रुड (ठा १—पत्र ७,
३, ४—पत्र १५६) । ३ परस्पर
आघनीय (कम्म ८, १४, पत्र ६१) । ४
शोभन, सुन्दर । ५ सगत, उचित व्यायग
(सुप्र २, ४, ३) । ६ न सम्यक्
(कम्म ८, ६, ४५) । ७ तन [दि] ?

समकित, सम्यग्-दर्शन, मय तदर पर
श्रदा (उवा, उव, पत्र ३३, जो ४०, कम्म
४, १४) । २ मत्त्व, परमात्म, सम्म १००

(आचा, सुप्र १, ८, २३) । ३ 'दिष्टी'
दिष्टी वि [दिष्टी] मत्त्व तदर पर श्रदा
रतनेवाता (ठा १—पत्र २०, २, २—पत्र
५६) । ४ 'दृष्टान' सम्यक् तदर पर श्रदा
श्रदा (ठा १—पत्र २०३) । ५ 'दिष्टी'
[दिष्टी] देतो 'दिष्टी' (सुप्रनि २३) ।

'ज्ञान' न [ज्ञान] सत्य पान, सत्य पान
(कम्म ८०, ५) । ६ 'सुय' न [सुय] ?
सत्य शास्त्र । ७ सत्य शास्त्र (गा १०, १)

'मित्त' उदित्ति वि [मित्त] उदित्ति वि
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

'ज्ञान' व [ज्ञान] ? शरीर उदित्ति
उदित्ति, मय शीर प्रणयत न तद पर श्रदा
रतनेवाता (नृप २६, जो २६—पत्र १३)

साधु और गृहस्थ के बीच की अवस्थावाला जैन पुरुष (सवोध ३१, ५४, बृह १, वव ४)।

सारुविअ न [सारूप्य] समान रूपता (सुश्र २, ३, २, २१)।

सारैन्द्र देखो सारिच्छ = साहस्य (गउड)।

सारोहि वि [सरोहिन्] सरोहण-कर्ता (पि ७६)।

साल पु [साल, शाल] १ ज्यौतिष्क महाग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८)। २ वृक्ष-विशेष, साखू का पेड़ (सम १५२, श्रौप, कुमा)। ३ वृक्ष, पेड़। ४ किला, प्राकार (सुपा ४६७)। ५ एक राजा, 'साल महासाल-सालिभहो य' (पडि)। ६ पक्षि-विशेष (परह १, १ टी—पत्र १०)। ७ पुन एक देव-विमान (सम ३५)। ८ कोट्टुय न [कोट्टक] चैत्य-विशेष (राज)। ९ वाहन, 'हण [वाहन] एक सुप्रसिद्ध राजा (विचार ५३१, हे १ २११, प्राप, पि २४४, षड्, कुमा)।

साल देखो सार = सार (सुपा ३८४, गाय १, १६—पत्र १६६)। १ इय वि [चित्त] सार युक्त (गाया १, १६)।

साल न [शाला] घर, गृह, 'मायामहसालपि ह् कालेण सयलपुच्छन्न' (सुपा ३८४)।

साल पु [श्याल] साला, बहू का भाई (मोह ८८, सिरि ६८८, भवि, नाट—मृच्छ ३५)।

साल पु देखो साला = (दे), 'जस्स सालस्स भगस्स', 'परित्तजोवे उ से साले' (परण १—पत्र ३७, ठा ८—पत्र ४२६)। १ मत वि [वत्] शाखावाला (गाया १, १ टी—पत्र ४, श्रौप)।

साल देखो साला = शाला। १ गिह, १ घर न [गृह] १ भित्ति-रहित घर (निचू ८)। २ बरामदावाला घर (राय)।

साल्द न देखो सारइय = शारदिक (गाया १, १६ - पत्र १६६)।

सालङ्गण न [शालङ्गायन] १ कौशिक गोत्र का एक शाखा-गोत्र। २ पुत्री उस गोत्रवाला (ठा ७—पत्र ३६०)।

सालकी स्त्री [दे] सारिका, मैना (दे ८, २४)।
सालगणी स्त्री [दे] सीढी, नि श्रेणी (दे ८, २६, कुप्र १२०)।

सालव वि [सालम्ब] अवलम्बन-युक्त, आश्रय-युक्त (गउड, राज)।

सालकल्लण पुं [शालकल्याण] वृक्ष-विशेष (भग ८, ३ टी—पत्र ३६४)। देखो सारकल्लण।

सालकिआ स्त्री [दे] सारिका, मैना (षड्)।
सालग न [दे] १ वृक्ष की बाहरी छाल (निचू १५)। २ लम्बी शाखा (आव १)। ३ रस, 'अवसालग वा अंबदालग वा भोत्तए वा पायए वा' (आचा २, ७, २, ७)।

सलणय न [सारणक] कढी के समान एक तरह का खाद्य (भवि)।

सालभंजी देखो सालहजी (धर्मवि १४७, कुमा)।

सालस वि [सालस] आलस्य-युक्त, अलसी (गउड, सुपा २५१)।

सालहजिया } स्त्री [शालभञ्जिका,
सालहजी } ङ्गी] काष्ठ आदि की बनाई हुई पुतली (सुपा ४३, ५४)।

सालहिआ } स्त्री [दे] सारिका, मैना (पाम्र,
सालही } आ २८, दे ८, २४)।

साला स्त्री [शाला] १ गृह, घर। २ भित्ति-रहित घर (कुमा, उप ७२८ टी)। ३ छन्द-विशेष (पिग)।

साला स्त्री [दे] शाखा (दे ८, २२, परह १, ३—पत्र ५४, दस ७, ३१, राय ८८)।

सालाइय देखो सलाग (राज)।

सालाणय वि [दे] १ स्तुत, जिसकी स्तुति की गई हो वह। २ स्तुत्य, स्तुति-योग्य (दे ८, २७)।

सालाहण देखो सालाहण = शाल-वाहन।

सालि पुन [शालि] १ व्रीहि, घान, चावल (सुश्र २, २, ११, गा ५६६, ६६१, कुमा, गउड)। २ वलयाकार वनस्पति-विशेष, वृक्ष-विशेष (परण १—पत्र ३४)। ३ भद्र पुं [भद्र] एक प्रसिद्ध श्रद्धि-पुत्र, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (उव, पडि)। ४ भसेल, ५ भसेल पु [दे] घान

के कणेश—वाल का तीक्ष्ण अग्रभाग (राज, उवा)। ६ रक्खिआ स्त्री [रक्खिआ] घान का रक्षण करनेवाली स्त्री, कलम-गोपी (पाम्र)। ७ वाहण पु [वाहन] एक सुप्रसिद्ध राजा (सम्मत्त १३७)। देखो साल-वाहण। ८ सच्छिय पुं [साक्षिक] मत्स्य की एक जाति (परण १—पत्र ४७)। ९ सित्थ पुं [सित्थ] मत्स्य-विशेष (आरा ६३)।

सालि वि [शालिन्] शोभनेवाला (गउड, कुमा)।

सालिआ स्त्री [शालिका] घर का कमरा, 'एहिह सुवति घरमङ्गिमसालिआसु' (कप्प)।

सालिआ देखो साडिआ (राज)।

सालिणिआ } स्त्री [शालिनिआ, ०नी] १
सालिणी } शोभनेवाली, 'पीणसोणिय-णसालिणिआहि' (अजि २६)। २ छन्द-विशेष (पिग)।

सालिभजिया स्त्री [शालिभञ्जिका] पुतली (पजम १६, ३७)।

सालिय पुं [शालिक] तन्तुवाय, जुलाहा (विसे २६०१)।

सालिय वि [शाल्मलिक] शाल्मलि वृक्ष का, सेमल के गाछ का, 'एग सालियापीड बद्धो आमेलगो होइ' (उत्तनि ३)।

सालिस देखो सारिस = सहश (गाया १, १—पत्र १३, ठा ४, ४—पत्र २६५, कप्प)।

सालिहीपिउ पु [शालिहीपित्] एक जैन गृहस्थ (उवा)।

साली स्त्री [श्याली] पत्नी-भगिनी, भार्या की बहन (दे ६, १४८)।

सालुअ पुन [शालूक] जल-कन्द विशेष, कमल कन्द (आचा २, १, ८, ३, दस ५, २, १८)।

सालुअ न [दे] १ शम्भुक, शख। सूखे यव आदि घान्य का अग्र भाग (दे ८, ५२)।

सालूर पुत्री [शालूर] १ भेक, मेंढक (पाम्र, सुर २, ७४, सुपा ६२, सार्ध १०६, सूक्त २)। स्त्री ०री (गा ३६१)। २ न छन्द-विशेष (पिग)।

२६६ टी) । १ न. एक नगर का नाम, राजा रावण के लिए कुबेर द्वारा बनाया हुआ एक नगर (पउम ७, १४६) । १० वि आप से प्रकाश करनेवाला (पउम ३६, ४) ।
 °पभा स्त्री [°प्रभा] १ प्रथम वासुदेव की पटरानी (पउम २०, १८६) । २ एक रानी का नाम (उप १०३१ टी) । °पह देखो °पभ (पउम ८, २२) । °बुद्ध वि [°बुद्ध] अन्य के उपदेश के बिना ही जिसको तत्त्व-ज्ञान हुआ हो वह (नव ४३) । °भु पु [°भु] १ ब्रह्मा (पह १, २—पत्र २८) । २ भारत में उत्पन्न तीसरा वासुदेव (सम ६४) । ३ सनरहवें जिनदेव का गणघर—मुख्य शिष्य (सम १५२) । ४ जीव, आत्मा, चेतन (भग २०, २—पत्र ७७६) । ५ एक महा-सागर, स्वयंभूरमण समुद्र, 'जहा सयभू उदहोण सेट्ठे' (सुम १, ६, २०) । ६ पुन. एक देव-विमान (सम १२) । देखो °भू । °भुगेहिणी स्त्री [°भुगेहिनी] सरस्वती देवी (अच्छु २) । °सुरमण पु [°सुरमण] देखो °भूरमण (पह २, ४—पत्र १३०, पउम १०२, ६१, स १०७, सुख १६, जी ३, २—पत्र ३६७, देवेन्द्र २५५) । °भुव, °भू पु [°भू] १ अनादि-सिद्ध सर्वज्ञ, 'जयजय नाह सयभुव' (स ६४७, उवर १२२) । २ ब्रह्मा (पाम, पउम २८, ४८, ती ७, से १४, १७) । ३ तीसरा वासुदेव (पउम ५, १५५) । ४ रावण का एक योद्धा (पउम ५६, २७) । ५ भगवान् विमलनाथ का प्रथम श्रावक (विचार ३७८) । ६ कुच, स्तन (प्राक ४०) । देखो °भु । °भूरमण पु [°भूरमण] १ समुद्र-विशेष । २ द्वीप विशेष (जीव ३, २—पत्र २६७, ३७०) । ३ एक देव-विमान (सम १२) । °भूरमणभद्र पु [°भूरमणभद्र] स्वयंभूरमण द्वीप का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३, २—पत्र ३६७) । °भूरमणमहाभद्र पु [°भूरमणमहाभद्र] वही अर्थ (जीव ३, २) । °भूरमणमहावर पु [°भूरमणमहावर] स्वयंभूरमण समुद्र का एक अधिष्ठाता देव (जीव ३, २—पत्र ३६७) । °भूरमणवर पु [°भूरमणवर] वही अनन्तर उक्त अर्थ (जीव ३, २) । °वर पु [°वर] कन्या का

स्वेच्छानुसार वरण, एक प्रकार का विवाह जिसमें कन्या निमन्त्रित विवाहार्थियों में से अपनी इच्छानुसार अपना पति वरण कर ले (उव. गउड, अशि ३१) । °वरी स्त्री [°वरा] अपनी इच्छानुसार वरण करनेवाली (पउम १०६, १७) । °सबुद्ध वि [°सबुद्ध] स्वयं ज्ञात-तत्त्व (सम १) ।

सयजय पु [शतञ्जय] पक्ष का तेरहवाँ दिवस (मुज्ज १०, १४) ।

सयजल पु [शतञ्जल] १ एक कुलकर-पुरुष (सम १५०) । २ वरण लोकपाल का विमान (भग ३, ७—पत्र १६८) । देखो सय-जल । ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न चौदहवें जिनदेव (पव ७) ।

सयभरी स्त्री [शाकम्भरी] देश विशेष (मुण्णि १०८७३) ।

सयग देखो सयय (पव ४६, कम्म ५, १००) । सयग्धी स्त्री [दे] जाता, चक्की, पीसने का यन्त्र (दे ८, ५) ।

सयड पुन [शकट] १ गाड़ी (पउम २६, २१), 'सयडो गती' (पाम) । २ न नगर-विशेष (पउम ५, २७) । °सुह न [°मुख] उद्यान-विशेष, जहाँ भगवान् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था (पउम ४, १६) ।

सयडाल देखो सगडाल (कुप्र ४४८) ।

सयण देखो स-यण = स्व-जन ।

सयण न [सटन] १ गृह, घर (गउड, सुपा ३६६) । २ अग ग्लानि, शरीर-पीडा (राज) ।

सयण न [शयन] १ वसति, स्थान (आचा १, ६, १, ६) । २ शय्या, बिछौना (गउड, कुमा, गा ३३) । ३ निद्रा (कुमा ८, १७) । ४ स्वाप, सोना (पह २, ४, सुपा ३६६) ।

सयणिल्ल न [शयनीय] शय्या, बिछौना (खाया १, १४—पत्र १६०, गउड) ।

सयणिल्लग देखो स-यण = स्व-जन, 'सेहस्स सयणिल्लजा आगया' (प्रोधभा ३० टी) ।

सयणीअ देखो सयणिल्ल (स्वप्न ६२, ६८, सुर ३, ६०) ।

सयणण देखो सणण (महा) ।

सयण्ह देखो स-ण्ह = स-वृष्ण ।

सयत्त वि [दे] मुदित, हर्षित (दे ८, ५) ।

सयत्त देखो सत्त (सुपा २८२) ।

सयय वि [सतत] निरन्तर (वव, सुर १, १३, महा) ।

सयय पु [शतक] १ वर्तमान अवसर-काल में उत्पन्न ऐरवत वर्ष के एक जिनदेव (सम १५३) । २ आगामी उत्तरिणी में भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव के पूर्वज नाम, जो भगवान् महावीर का श्रावक था (ठा ६—पत्र ४५५) । ३ न ती सा समुदाय (गा ७०६, अच्छु १०१) ।

सयर देखो सायर = सागर (विते ११८७) ।

सयरह देखो सयराह (स ७६२) ।

सयरा देखो सक्करा, 'सयर दहि च इद्व दुराण कुणसु साहीण' (पउम ११५, ८) ।

सयराह } अ [दे] १ शीघ्र, जल्दी (दे ८, सयराहा } ११, कुमा, गउड, वैद्य ६१०) । २ युगात्, एक साथ (विते ६५६) । ३ अकस्मात् (औप) ।

सयरि देखो सत्त-रि = सप्तति (वि २४४, ४६६) ।

सयरी स्त्री [शतावरी] वृष विशेष, शतावर का गाछ (पह १—पत्र ३१) ।

सयल न [शकल] खड, टुकड़ा (दे १, २८) ।

सयल वि [सकल] १ सपूर्ण, पूरा । २ स, समग्र (गा ५३०, कुमा, सुपा १६७, ३३६, जी १४, प्रासू १०८, १६४) । °चद पु [°चन्द्र] 'श्रुतास्वाद' का कता एक वैद मुनि (आ १६६) । °भूसण पु [°भूपा] एक केवलज्ञानी मुनि (पउम १०२, ५७) । °देस पु [°देश] सर्वाधिकारी, प्रनाय वाक्य (अज्ज ६२) ।

सयलि पु [शकल्लि] मोन, मद्यी (दे ८, ११) ।

सयहस्थिय वि [सौवहस्तिरु] १ चन्द्र से उत्पन्न । २ न शव विशेष, 'महान्तरे नरिवो मित्थइ सयहस्थिय सहचये' (वि ६५१, ४५२) ।

सयाचार देखो स-याचार = मदाचार ।

सयाचार देखो सआ-चार = सदा-चार ।

सयाण देखो स-याण = स-ज्ञान ।

सयालि पु [जतालि] नाशवर्ष ५ इय

(अणु) । ४ आजा, हुकुम (परह २, १—पत्र १०१, महा) । ५ प्रास, निर्वाह-साधन, 'जीवतसामिपडिमाए सासण विअरिऊए भत्तीए' (कुलक २३) । ६ वि प्रतिपादक, प्रतिपादन-कर्ता (सम्म १, गण २२, एदि ४८) । ७ प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया जाय वह (परह २, १—पत्र ११६) । °देवी की [°देवी] शासन की अधिष्ठात्री देवी (कुमा) । °सुरा की [°सुरी] वही अर्थ (पचा ८, ३२) ।

सासण देखो सासायण (कम्म २, २, ५, १४, ४, १८, २६, ५, ११, ६, ५६, पच २, ४०) ।

सासणा की [शासना] शिक्षा (परह २, १—पत्र १००) ।

सासणावण न [शासन] आजापन (स ४६३) ।

सासय वि [शास्यत] नित्य, अविनश्वर (भग, पात्र, से २, ३, सुर ३, ५८, प्रासू १४१) ।

सासय पु [स्वाश्रय] निज का आचार (से २, ३) ।

सासव पु [सर्पप] सरसो (आचा २, १, ८, ३) । °नालिया की [°नालिका] कन्द-विशेष (आचा २, १, ८, ३) ।

सासवूल पु [दे] कपिकच्छू का पेड़, कौल, किवांच, कवाछ (दे ८, २५) ।

सासाण } न [सासादन] १ गुण-स्थानक-सासायण } विशेष, द्वितीय गुण स्थान (कम्म ४, १३, ८६) । २ वि द्वितीय गुण-स्थान में वर्तमान जीव (सम्म १६, सम्म २६) ।

सासि वि [शासिन] श्वस-रोगवाला (तदु ५०) ।

सासिटु (शो) वि [शासितृ] शासन-कर्ता, शिक्षा-कर्ता (अभि २१४) ।

सासिद्ध देखो सासि (विपा १, ७—पत्र ७३) ।

सामुया देखो सासु (सुर ६, १५७, ६, २३३, सिरि ६८६) ।

सामुर न [श्वशुर] श्वशुर गृह (सुर ८, १६४) ।

सामुर (अप) देनो ससुर = श्वशुर (अभि) ।

सासू की [श्वशू] सासु, पति तथा पत्नी की माता (पात्र, पउम १७, ४, गा ३३६) ।

सासूय वि [सासूय] असूया-युक्त, मत्सरी (सुर ३, १६७, उप ७२८ टी) ।

सासेरा की [दे] यान्त्रिक नाचनेवाली, यन्त्र की बनी हुई नर्तकी (राज) ।

साह सक [कथय, शास] कहना ।

साहइ, साहेइ (हे ४, २, उव, काल, महा) ।

साहसु, साहेसु (महा) । भवि, साहिस्सइ,

साहिस्सामो (महा; आचा १, ४, ४, ४) ।

वक्क साहेत्त, साहयत (हेका ३८, काप्र ३०, सुर ६, १३२) । कवक्क साहिज्जंत,

साहिप्पत, साहिय्यत, साहियमाण

(चड, सुर १, ३०, सुपा २०५, चड, सुपा २६३, उप पु ४२, चंड) । सक्क साहिऊण,

साहेत्ता (काल) । हेक्क साहिड (काल,

महा) । क्क साहियच्च, साहेअच्च (महा,

सुर १, १५४) ।

साह देखो सलह = श्वाघ । क्क साहणीअ

(प्राप) ।

साह सक [साध] १ सिद्ध करना, बनाना ।

२ वश में करना । साहइ, साहेइ, साहेत्ति

(भग, कप्प, उव, प्रासू २७, महा) । वक्क

साहत, साहित, साहेमाण (सिरि ६२८,

महा, सुर १३, ८२) । कवक्क साहिज्जमाण

(नाट) । हेक्क साहिड (महा) । क्क साह-

गिज्ज, साहणीअ, साहियच्च (मा ३६,

पउम ३७, ३०, सुर ३, २८) ।

साह पु [दे] १ वालुका, वासू । २ उलूक,

उल्लू । ३ दधिसर, दही की मलाई (दे ८,

५१) । ४ प्रिय, पति (सखि ४७) ।

साह (अप) देखो सच्च = सर्व (हे ४,

३६६, कुमा) ।

साहजण } पु [दे] गोधुर, गोखळ (दे

साहजय } ८, २७) ।

साहजणी की [साभाज्जनी] नगरी विशेष

(विपा १, ४—पत्र ५४) ।

साहय वि [साधक] सिद्ध करनेवाला,

साधना करनेवाला (एया १, ८ टी—पत्र

१५५, कप्प, नव २५, सुपा ८४, धर्मस

७०, हि २०) ।

साहग वि [शासक, कथक] कहनेवाला (सुर १२, ३०, स ३६१) ।

साहज्ज न [साहाय्य] सहायता, मदद (विसे २६५८, गण ६, रयण १४, सिरि ३६८, कुप्र १२) ।

साहट्ट सक [स + वृ] सवरण करना, समेटना । साहट्टइ (हे ४, ८२) ।

साहट्टिअ वि [सयृत] समेटा हुआ, सहत् किया हुआ, पिडीकृत (कुमा) ।

साहट्टु अ [साहृत्य] समेट कर, सकुचित कर, 'दाहिएण जाणु धरणित्तलसि साहट्टु'

(कप्प), 'साहट्टु पाय रीएज्जा' (आचा २,

३, १, ६), 'नियडेण साहट्टु य जे सिएाई'

(सुअ १, ७, २१) ।

साहट्टु वि [साहृष्ट] पुलकित (राज) ।

साहण सक [स + हन्] सघात करना,

सहत् करना, चिपकाना । साहणत्ति (भग) ।

कम्म साहन्त्ति (भग १२, ४—पत्र ५६१) ।

कवक्क साहणगत, साहन्नत (राज, ठा

२, ३—पत्र ६२) । सक्क साहणत्ता (भग) ।

साहण न [साधन] १ उपाय, कारण, हेतु

(विसे १७०६) । २ सैन्य, लश्कर (कुमा,

सुर १०, १२१) । ३ वि सिद्ध करनेवाला,

'जह जीवाए पमाओ अणत्थसयसाहणो होई'

(हि १३, सुर ४, ७०) । की, °णा, °णी

(हे ३, ३१, षड्) ।

साहणण न [सहनन] सघात, अवयवी का

आपस में चिपकना (भग ८, ६—पत्र ३६५,

१२, ४—पत्र ५६७) ।

साहणिअ पु [साधनिक] सेना-पति (सुपा

२६२) ।

साहणिज्ज देखो साह = साध ।

साहणी देखो साहण = साधन ।

साहणीअ देखो साह = श्वाघ, साध ।

साहणगत देखो साहण = स + हृत् ।

साहत्थि अ [स्वहस्तेन] १ अपने हाथ से ।

२ साक्षात् (एया १, ६—पत्र १६३,

उवा) ।

साहत्थिया } की [स्वाहस्तिनी] क्रिया-विशेष,

साहत्थी } अपने हाथ से गृहीत जीव आदि

द्वारा हिंसा करने में होनेवाला कर्म-वच्य

(ठा २, १—पत्र ४०, नव १८) ।

सरभेअ वि [दे] स्मृत, याद किया हुआ (दे ८, १३)।

सरमय पुत्र [शर्मक] देश विशेष (पञ्च ६८, ६५)।

सरय पुन [शरद्] ऋतु-विशेष, आसोज—आश्विन तथा कार्तिक का महीना (पह २, २—पत्र ११४, गउड, से १, २७, गा ५३४, स्वप्न ७०, कुमा, हे १, १८), 'ध्रुय माण माण पिय पियसरय जाव वच्चए सरय' (वजा ७४)। °चद पु [चन्द्र] शब्द ऋतु का चोद (गाया १, १—पत्र ३१)। देखो सर = शरद्।

सरय पुं [शरक] काष्ठ-विशेष, अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणि का काष्ठ जिससे विसा जाता है वह (गाया १, १८—पत्र २४१)।

सरय पुन [सरक] श मद्य-विशेष, गुड तथा घातकी का बना हुआ दारू (पह २, ५—पत्र १५०, सुपा ४८५, गा ५५१ अ, कुप्र १०)। २ मद्य-पान (वजा ७४)।

सरय देखो स रय = स-रत।

सरय (अय) पु [सरस] छन्द-विशेष (पिग)।

सरल पु [सरल] श वृक्ष-विशेष (परा १—पत्र ३४)। २ ऋतु, माया-रहित (कुमा, सण)। ३ सीधा, अवक्र (कुमा, गउड)।

सरलिअ वि [सरलित] सीधा किया हुआ (कुमा, गउड)।

सरली वी [दे] चीरिका, क्षुद्र कीट-विशेष, भीगुर (दे ८, २)।

सरलीआ वी [दे] श जन्तु-विशेष, साही, जिसके शरीर में काँटे होते हैं। २ एक जात का कीडा (दे ८, १५)।

सरव पु [शरप] भुजपरिसर्प की एक प्रकार (सूत्र २, ३, २५)।

सरस वि [सरस] रस-युक्त (श्रीफ, अत, गउड)। °रण पु [रण्य] समुद्र, सागर (से ६, ४३)।

सरसिज न [सरसिज] कमल, पद्म सरसिय } (हम्मोर ५१ रमा)।

सरसिरुह न [सरसिरुह] कमल, पद्म (उप ७२८ टी, सम्मत ७६)।

सरसी वी [सरसी] बडा तालाब—तडाग (श्रीफ, उप पृ ३८, सुपा ४८५)। °रुह न [रुह] कमल (सम्मत १२०, १३६)।

सरसई वी [सरस्वती] १ वाणी, भाग्य, भाषा (पात्र, श्रीफ)। २ वाणी की अविघ्नात्री देवी (सुर १, १५)। ३ गीतरति नामक इन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४, गाया २—पत्र २५२)। ४ एक राज-पत्नी (विपा २, २—पत्र ११२)। ५ एक जैन साध्वी जो सुप्रसिद्ध कालकाचार्य को बहिन थी (काल)।

सरह पु [शरभ] श शिकारी पशु की एक जाति (सुपा ६३२)। २ हरिश्च का एक राजा (पञ्च २२, ६८)। ३ लक्ष्मण के एक पुत्र का नाम (पञ्च ६१, २०)। ४ एक सामन्त नरेश (पञ्च ८, १३२)। ५ एक वानर (मे ४, ६)। ६ छन्द-विशेष (पिग)।

सरह पु [दे] श वृक्ष-विशेष, वेतस या बेंत का पेड (दे ८, ४७)। २ सिंह, पञ्चानन (दे ८, ४७, सुर १०, २२२)।

सरह (अप) वि [रुलाव्य] प्रशसनीय (पिग)।

सरहस देखो स-रहस = स-रसस।

सरहा वी [सरघा] मधु-मक्षिका (दे २, १००)।

सरहि पुवो [शरवि] तूणीर, तीर रखने का भाषा—तरकस (मे ७०)।

सरा वी [दे] माला (दे ८, २)।

सराग देखो स राग = स-राग।

सराडि वी [शराटि, शराडि] पक्षी की एक जाति (गउड)।

सराय पु [शराय] मिट्टी का पात्र-विशेष, मकोरा, पुरवा (दे २, ४७, सुपा २६६)।

सरासण देखो स-रासण = श-रासन।

सराह वि [दे] दर्पादुर, गर्व से उद्वत (दे ८, ५)।

सराहय पु [दे] सर्प, साप (दे ८, १२)।

सरि वि [सहश] सहय, सरोला, तुल्य (भग, गाया १, १—पत्र ३६, अत ५, हे १, १४२, कुमा)।

सरि वी [सरिन्] नदी (से २, २६, सुपा ३५४, कुप्र ४३, मत्त १२३, महा)।

°नाह पु [नाथ] समुद्र (धर्मवि १०१)। देखो रारिआ।

सरिअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (पञ्च ३०, ५४, सुपा २२१, ४६२)।

सरिअ देखो सरि = सहय, 'सोमेभाण सरिय सपत्थिया थिरजसा देविदा' (श्रीफ)।

सरिअ न [सुतम्] अन्न, पर्याप्त, वत्, 'बहुभणिएण सरिअ' (रयाण ५०)।

सरिआ वी [सरिन्] नदी (कुमा, हे १, १५, महा)। °वइ पु [पति] समुद्र (से ७, ४१, ६, २)।

सरिआ वी [दे] माला, हार (पह १, ४—पत्र ६८, कुप्र ३, सुपा ३४३)।

सरिअख } वि [सदक्ष] सहय, समान, सरिअच्छ } तुल्य (प्राक् ८६, प्राप्र, हे १, १४२, २, १७, कुमा)।

सरिअ वि [स्मृत्] स्मरण कर्ता (ठा १—पत्र ४४४)।

सरिअरी वी [दे] समानता, सरोला, गुजराती में 'सरभर', 'तमो जाया दोएहवि सरिअरी' (महा १०)।

सरिअ देखो सरीर (पव २०५)।

सरिआय पु [दे] आसार, वेगवाली शृष्टि (दे ८, १२)।

सरिस वि [सन्टा] समान, सरोला, तुल्य (हे १, १४२, भग, उव, हेका ४८)।

सरिस पुन [दे] श सह, साथ, 'का समसीसी तिपासिदयाण

वडवालणुत्स सरिसम्मि।

उवसमियसिहोपसरो मयरहरो इधण जत्स। (वजा १५४)।

'आढत्तो सगामो वलवइणा तेण सरिसावि' (महा)। २ तुल्यता, समानता (सति ४७)।

'अतेउरसरिसेणं पलोइय नरवदिण' (महा)।

सरिसरी देखो सरिअरी (महा)।

सरिसव पु [सर्पप] सरयो (उड, प्राप ४०६, स ४४, कुमा, कम्म ४, ७८, ७५, ७७, गाया १, ५—पत्र १०७)।

सरिसाइल वि [दे] समान, सहय (दे ८, ६)।

सरिस्सव देखो सरीसव (पञ्च २०, ६२)।

नामन्] देखो ऊपर का दूसरा अर्थ (सम ६७) ।

साहारण न [सधारण] ठीक तरह से धारण करना, टिकाना, 'अभिक्रमे पडिक्रमे संकुचए पसारए कायसाहारणट्टाए' (आचा १, ८, ८, १५) ।

साहारण न [स्वाधारण] सहारा करना, उपकार करना (सम ५१) ।

साहारण न [सहरण] सकोचन, समेटन (विसे ३०५२) ।

साहारिअ वि [सवारित] ठीक तरह धारण किया हुआ (भवि) ।

साहाविअ वि [स्वाभाविक] स्वभाव सिद्ध, नैसर्गिक, कुवरती (गा २२५, गडड, कप्प, सुपा ४६३) ।

साहि पु [शाखिन्] वृक्ष, पेठ (पात्र, सण, उप ५ १५३) ।

साहि पु [दे] १ शक देश का सामन्त राजा, 'पत्तो सगकूल नाम कूल । तत्थ जे सामता ते साहिणो भएणति' (भग) । २ देखो साही (दे न, ६, से १२, ६२) ।

साहि (अप) देखो सामि = स्वामिन् (पिग) ।

साहिअ वि [कथित, शासित, स्वाख्यात] कहा हुआ, उक्त, प्रतिपादित (सुपा २७६, सुर १, २०४, काल, पात्र, आचा) ।

साहिअ वि [सावित] सिद्ध किया हुआ, निष्पादित (अत १३, सुर ६, ६६, भवि) ।

साहिअ वि [साधिक] सविशेष, सातिरेक (कप्प, सुपा २७६) ।

साहिअ वि [स्वाहित] स्वहित से विच्छेद, निज का अहित (सुपा २७६) ।

साहिरण वि [साधिरण] १ अधिकरण-युक्त (निचू १०) । २ कलह करता, भगडता (ठा ३—पत्र ३५२) ।

साहिरण वि [साधिरणिन्] अधिकरण-युक्त, शरीर आदि अधिकरणवाला (भग ६६, १—पत्र ६६८) ।

साहिरण देखो साहिरण (राज) ।

साहिरण देखो साहिरण (भग १६, १ टो—पत्र ६६६) ।

साहिज्ज देखो साहज्ज (अत १३, सुपा २०५, गडड, कुप्र १३) ।

साहिज्जत देखो साह = कथय ।

साहिज्जमाण देखो साह = साध् ।

साहिण (अप) वि [कथिन्] कहनेवाला (सण) ।

साहित्त न [साहित्य] अलकार-शास्त्र (सुपा १०३, ४५३) ।

साहिपपत } देखो साह = कथय ।
साहियमाण }

साहिर वि [शासित्, कथयित्] शासन करनेवाला, कहनेवाला (गडड) ।

साहिल्लय न [दे] मधु, शहद (दे न, २७) ।

साही ली [दे] १ रथ्या, मुहल्ला (दे न, ६, से १२, ६२) । २ बतैनी, मार्ग, रास्ता (पिंड ३३४) । ३ राजमार्ग (से १२, ६२) । ४ खिडकी, छोटा दरवाजा (शोध ६२२) ।

साहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्वतन्त्र (पात्र, गा १६७, चाद ४३, सुर ३, ५६, प्रासू ६६) ।

साहीय देखो साहिअ = साधिक, 'तैत्तीस ज्यहिनामा साहीया हुति अजयसम्माए' (जीवस २२३) ।

साहु पु [साधु] १ मुनि, यति (विसे ३६००, आचा, सुपा ३४२) । २ सज्जन, सत्पुरुष, 'साहवो सुअणा' (पात्र) । ३ वि सुन्दर, शोभन, अच्छा (आचा, स्वप्न ६७, कुप्र ४५६) । ०कम्म न [कर्मन्] तप-विशेष, निविकृतिक तप (सवोध ५८) । ०कार, ०कार पु [कार] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा (वेणी ११४, ठा ४, ४ टो—पत्र २८३, पउम ५६, २३, से १३, १६, महा, भवि, विक्र १=६) । ०नाह पु [नाथ] श्रेष्ठ मुनि, आचार्य (मुपा ५४५) । ०वाय पुन [वाद्] प्रशंसा, 'जाय न साहुवाय' (सिरि ३३४, स ३८५, सुपा ३७०) ।

साहुई ली [साध्वी] १ ली-साधु, अमणो, यतिनी । २ सती ली । ३ अच्छी (प्राड २८) ।

साहुणी ली [सध्वी] ली-साधु, यतिनी (काल, उप १०१४, सुपा ६७, ३३२, सार्ध २६, कुप्र २१४) ।

साहुल्लिआ } ली [दे] १ वक्र, कपड़ा (दे
साहुली } न, ५२, गा ६०६ अ, कप्प,
पात्र, सुपा २२०, २४६) । २ शिरोवक्र-खड
(रभा) । ३ शाखा, झली (दे ८, ५२, षड्,
पात्र) । ४ भ्रू, भौं । ५ भुज, हाथ । ६
पिकी, कोयल । ७ सदृश, समान । ८ सखी,
सहचरी (दे न, ५२) । ९ मयूर-पिच्छ (स
५२३ टि) ।

साहेज्ज देखो साहज्ज (दे ७, ८६, सुपा १५२, गडड, महा, उपप २८) ।

साहेज्ज वि [दे] अनुगृहीत (दे न, २६) ।

साहेमाण देखो साह = साध् ।

सिअ देखो सिव = शिव (सक्ति १७) ।

सिअ वि [अशित] आश्रित (से ६, ४८, उत १३, १५, सूअ १, ७, ८) ।

सिअ देखो सिआ = स्यात् (भग, आक १२८, धर्मस २५८, १११२, गण ५, कुप्र १५६) ।

सिअ वि [शित] तीक्ष्ण धारवाला (सुपा ४७५) ।

सिअ वि [सिचत] अच्छी तरह प्राप्त (विसे ३४४५) ।

सिअ पु [सित] १ शुक्ल वर्ण । २ वि श्वेत, सफेद, शुक्ल (श्रीप, उव, नाट—विक्र ७१, सुपा ११, भवि) । ३ बद्ध, बँधा हुआ (विसे ३०२६) । ४ न. नाम-कर्म का एक भेद, श्वेत-वर्ण का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ४०) । ०किरण पु [किरण] चन्द्र, चाद (उप १३३ टो) । ०गिरि पु [गिरि] वैताव्य पर्वत की उत्तर ओरि में स्थित एक विद्याधर नगर (इक) । ०उभाण न [उभाण] मर्ष श्रेष्ठ ध्यान, शुक्ल ध्यान (सुपा १) । ०पक्ख पु [पक्ष] शुक्ल पक्ष (सुपा १७२) । ०यर पु [र] चन्द्रमा (उप ७२८ टो) । ०वड पु [पट] पाल, जहाज का वादवान, 'सकोइओ मियवडो पारट्टा देवयाण विन्नत्तो' (उप ७२८ टो) । ०वास पु [वासस्] श्वेताम्बर जैन (ती १५) ।

सिअ (अप) देखो सिरी = श्री (भवि) । ०वत् वि [मन्] लक्ष्मी-सपत्न, धनाढ्य (भवि) । सिअअ देखो सिचय (गा ८७७, ८६८, कप्प) ।

सल्लुद्धरण न [शल्योद्धरण] १ शल्य को बाहर निकालना (विषा १, ८—पत्र ८६) ।
२ आलोचना, प्रायश्चित्त के लिए श्रुत के पास दूषण-निवेदन (श्रोत्र ७६१) ।

सल्लेहणा देखो सल्लेहणा (आरा ३५, भवि) ।
सल्लेहिय वि [सल्लेखिन] क्षीण, 'सल्लेहिया कसाया करति पुण्णिणो ए चित्तसलोह' (आरा ३६) ।

सव सक [शप्] १ शाप देना, आक्रोश करना, गाली देना । २ आह्वान करना ।
सवइ (गा ३२४, ४००), सविमो, सवसु (कुमा) । कर्म स-पए (विमे २२२७) । वक्तु सवमाण (उव) । कवक सवमाण (परह १, ३—पत्र ५४) ।

सव सक [सु] उत्पन्न करना, जन्म देना ।
सवइ (हे ४, २३३, पड) ।

सव देखो सो = सु । सवइ, सवए (षड) ।
सव सक [सु] भरना, टप-रना, चूना । सवइ (विसे १३६८) ।

सव पुं [श्रवस] १ कान । २ ख्याति, 'सवोपुष्पो' (आप्र) ।

सव न [शव] शत्रु, मुरदा, मृत शरीर (पाप्र, स ७६३, सण) ।

सवती स्त्री [सवती] नदी (उप १०३१ टी) ।
सवकी देखो सवती (सुपा ३३७, ६०१, सूक्त ४६, महा, कुप्र १७०) ।

सवकख देखो स-वकख = स-पक्ष ।
सवगीय वि [सवगीय] सर्वां सवन्वी (हास्य १३०) ।

सवच देखो स-पच = स-पच ।

सवजा देखो सपज्जा (चेद्य २०४, कप्पु) ।
सवडमुह } वि [दे] अभिमुख, समुख,
सवडहुत्त } 'सहसा सवडमुहो चलिओ' (महा, दे ८, २१, पउम ७२, ३२, भवि),
उणइओ नहयल विमाणयो अह ताए सवडहुत्तो एणसतरहाल्लुओ सहसा' (पउम ८, ४७), 'वच्चइ य दाहिणदिस लकानयरो-सवडहुत्तो' (पउम ८, १३४) ।

सवण देखो समण = श्रमण (आरा ३६, भवि) ।

सवण पु [श्रवण] १ कर्ण, कान (पाप्र, सुपा १२८) । २ नक्षत्र-विशेष (सम ८, १५, सुज १०, ५) । ३ न आकर्णन, सुनना (भग, सुर १, २४६) । देखो सवन ।

सवण न [वापन] आह्वान (विसे २२२७) ।

सवग देखो स-वण = स-वण ।

सवण न [सवन] कर्मों में प्रेरणा (राज) ।

सवणता } स्त्री [श्रवणता] १ आकर्णन,
सवणया } श्रवण, सुनना (ठा २, १—
पत्र ४६, ६—पत्र ३५५, णाया १, १—
पत्र २६, भग, औप) । २ अवग्रह-ज्ञान (एदि १७४) ।

सवण वि [सवर्ण] समान वर्णवाला (पउम २, ३१) ।

सवण न [सावर्ण्य] समान-वर्णता (प्रयो २०) ।

सवत्त पु [सपत्त] १ दुरमन, शत्रु, रिपु, (से ३, ५७, उप १०३१ टी, गडड) । २ वि विरुद्ध (श्रोत्र २७६) । ३ समान, तुल्य, 'सवत्तसवत्तनयणरमणिया' (कुप्र २), 'सयमेव ससिसवत्त छत्त उवरि डिय तसस' (कुप्र ११६) ।

सवत्तिणी देखो सवत्ती, 'सवि (? व)त्तिणी' (पिड ५१०) ।

सवत्तिया स्त्री [सपत्तिका] नीचे देखो (उवा) ।

सवत्ती स्त्री [सपत्ती] पति की दूसरी स्त्री (उवा, काप्र ८७१, स्वप्न ५७, ठा ४, ३—पत्र २४२, हेका ४५) ।

सवन (मा) पु [श्रवण] एक ऋषि का नाम (मोह १०६) । देखो सवण = श्रवण ।

सवन्न देखो सवण (हमीर १७) ।

सवय देखो स-वय = स-वयस्, स-वत्त ।

सवर देखो सवर (पउम ६८, ६५, इक, कप्पु, पि २५०) ।

सवरिआ देखो सपज्जा (नाट—वेणी २६) ।

सवल देखो सवल (दे २, ५५, कुमा, हे १, १३७, रमा) ।

सवलिआ स्त्री [दे] भरोच का एक प्राचीन जैन मन्दिर (सुरि १०८६६) ।

सवह पु [शपथ] १ आक्रोश वचन, गाली (णाया १, १—पत्र २६, वेवेन्न ३५) । २ सोगन्ध, सोह (गा ३३३, महा) । ३ दिग्, दोषारोप की शुद्धि के लिए किया जाता अग्नि-प्रवेश आदि (पउम १०१, ७) ।

सवाय पु [दे] श्येन पत्नी (दे ८, ७) ।

सवाग } देखो स-वाग = श्व-पाक ।
सवाय }

सवाय देखो स-वाय = स-पाद, स वाद, सद् वाच् ।

सवार न [दे] सुवह, प्रभात, पुवराती में 'सवार' (बृह १) ।

सवास पु [दे] ब्राह्मण (दे ८, ५) ।

सवास देखो स-वास = स वास ।

सविअ वि [शाम] शाप-ग्रस्त, प्राकृत (दे १, १३, पाप्र) ।

सविउ पु [सवितु] १ सूर्य, रवि (श्रोत्र ६६७) । २ हस्त-नक्षत्र का अधिपति देव (सुज १०, १२) । ३ हस्त नक्षत्र (श्रु) ।

सविन्ध वि [सापेक्ष] अपेक्षा रखनेवाला (मम्मत्त ७६) ।

सविज्ज देखो स-विज्ज = स-विद्य ।

सविट्ठा स्त्री [श्रविष्ठा] नक्षत्र-विरोध, प्रतिष्ठा नक्षत्र (राज) ।

सविण देखो सुमिण = स्वप्न (पव ६८) ।

सवितु देखो सविउ (ठा २, ३—पत्र ७७) ।

सविस न [दे] सुरा, दाह (दे ८, ५) ।

सविह न [सविह] पास, निकट (पाप्र) ।

सव्व वि [सव्य] वाम, बायाँ (श्रीप, उप पु १३०) ।

सव्व वि [श्रव्य] श्रवण योग्य, 'सव्वक्खल्लं निवाई' (भग १, १—पत्र ११) ।

सव्व स [सर्व] १ सब, सकल, समस्त । २ सपूर्ण (हे ३, ५८, ५६) । ३ आ प्र [तस] १ सब से । २ सब श्रोत से (हे १, ३७, कुमा, आवा) । ३ ओभइ वि [तोभइ] १ सब प्रकार से सुखी । २ न सब प्रकार से सुख (पव १) । ३ चक्र विद्योप, युवायुव के ज्ञान का साधन-भूत एक चक्र (ति ६) । ४ महाशुक्र देवकी के स्थित ए-विमान (सम ३२) । ५ पविचा वैदेयक विमान

सिचाविअ वि [सेचित] छिडकवाया हुआ (उप १०३१ टी, स २८०, ५४६)।
 सिचिअ वि [सिक्त] सीचा हुआ, छिडका हुआ (कुमा)।
 सिज अक [शिञ्ज] अस्पृष्ट आवाज करना। वक्त सिजत (सुपा ५०, सण)। कृ सिजिअव्य (गा ३६२)।
 मिजण न [शिञ्जन्] १ अस्पृष्ट शब्द, भूषण की आवाज। २ वि अस्पृष्ट आवाज करनेवाला (सुपा ४)।
 सिजा ली [शिञ्जा] भूषण का शब्द (कप्पु, प्राप)।
 सिजिणी ली [शिञ्जिनी] धनुषण, धनुष को डोरी (गा ५४)।
 सिजिय न [शिञ्जिन] अव्यक्त आवाज (उप १०३१ टी, कप्पु)।
 सिजिर वि [शिञ्जित्] अस्पृष्ट आवाज करनेवाला, 'सहाल सिजिर कणिए' (पाम्म)।
 सिभ पुन [सिभन्] कुछ रोग-विशेष (भग ७, ६—पत्र ३०७)।
 सिंढ वि [दे] मोटित, मोडा हुआ (दे ८, २६)।
 सिंढ पु [दे] मयूर, मोर (दे ८, २०)।
 सिंढा ली [दे] नासिका-नाद, नाक की आवाज (दे ८, २६)।
 सिंदाण न [दे] विमान (उप १४२ टी)।
 सिंटी ली [दे] खजूरी, खजूर का गाछ (दे ८, २६, पाम्म, आवम)।
 सिंदीर न [दे] नुपुर (दे ८, १०)।
 सिंदु ली [दे] रज्जु, रस्ती (दे ८, २८)।
 सिंदुरय न [दे] १ रज्जु, रस्ती। २ राज्य (दे ८, ५४)।
 सिंदुवण पु [दे] अग्नि, आग (दे ८, ३२)।
 सिंदुवार पु [सिंदुवार] बुध-विशेष, नियुंएडी, सन्हालु का गाछ (गउड, कुमा, उप १०१६, कुप्र ११७)।
 सिंदूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०)।
 सिंदूर न [सिन्दूर] १ सिंदूर, रक्त-वर्ण, चूर्ण-विशेष (पवम २, ३८, गउड, महा)। २ पु बुध-विशेष (हे १, ८५, सलि ३)।
 सिंदूरिअ वि [सिन्दूरित] सिन्दूर-युक्त किया हुआ (गा ३००)।

सिंदोल न [दे] खजूर, फल-विशेष (पाम्म)।
 सिंदोला ली [दे] खजूरी, खजूर का पेड़ (दे ८, २६)।
 सिंयव न [सैयव] १ सिंध देश का लवण, सेंधा नोन (गा ६७६, कुमा)। २ पु. घोडा (हे १, १४६)।
 सिंयविग्रा ली [सैयविका] लिपि विशेष (विते ४६४ टी)।
 सिंधु ली [सिंधु] १ नदी-विशेष, सिंधु नदी (धर्मवि ८३, ज ४—पत्र २६०, सम २७)। २ नदी, 'सरिआ तरगिणी निण्णया नई आवगा सिंधु' (पाम्म)। ३ सिंधु नदी की अधिष्ठायिका देवी (ज ४)। ४ पु समुद्र, सागर (पाम्म, कुप्र २२, सुपा १, २६४)। ५ देश विशेष, सिन्ध देश (मुदा २४२, भवि, कुमा)। ६ द्वीप विशेष। ७ पद्म-विशेष (ज ४—पत्र २६०)। ८ णद न [नद] नगर-विशेष (पउम ८, १६८)। ९ गाह पु [नाथ] समुद्र (सपु १५१) १० देवी ली [देवी] सिंधु नदी की अधिष्ठायिका देवी (उप ७२८ टी)। ११ देवीकूट पु [देवीकूट] शुद्ध हिमवत पर्वत का एक शिखर (ज ४—पत्र २६५) १२ पवाय पुन [प्रपात] कुण्ड-विशेष, जहाँ पर्वत से सिंधु नदी गिरती है (ठा २, ३—पत्र ७२)। १३ राय पु [राज] सिन्ध देश का राजा (मुदा २४२)। १४ वइ पु [पति] १ समुद्र, सागर (स २०२)। २ सिन्ध देश का राजा (कुमा)। १५ सोवीर पु [सौवीर] सिंधु नदी के समीप का देश-विशेष (भग १३, ६, महा)।
 सिंधुर पु [सिंधुर] हस्ती, हाथी (सुपा ८३, सम्मत १८७, कुमा)।
 सिप देखो सिच। सिपइ (हे ४, ६६)। कर्म सिपइ (हे ४, २५५) कवक सिपपत (कुमा ७, ६०)।
 सिपिअ देखो सिचिअ (कुमा)।
 सिपुअ वि [दे] पागल, भूल-गृहीत, भूताविष्ट (दे ८, ३०)।
 सिवल पु [शालमल] सेमल का गाछ (रभा २०)।

सिवालि देखो सवालि = शालमलि (हे १, १४६, ८, २३, पाम्म, सुर १४, ४३, पि १०६, सया ८५, उत १६, ५२)।
 सिवालि ली [शिम्बलि, शिम्बा] कलाय आदि की फली, छीमी, फलियाँ (भग १५—पत्र ६८०, आचा २, १, १०, ३, दस ५, १, ७३)। १ थालग पुन [स्थालक] १ फली की थाली। २ फली का पाक (आचा २, १, १०, ३)। देखो सवालि।
 सिवालिका ली [सिम्बलिका] टोकरी (जिन-दत्ताख्यान)।
 सिवा ली [शिम्बा] फली, छीमी, 'कोसी समी य सिवा' (पाम्म)।
 सिवाडी ली [दे] नाक की आवाज (दे ८, २६)।
 सिवीर न [दे] पलाल, घास (दे ८, २८)।
 सिभ पु [श्लेषमन्] श्लेषमा, कफ (हे २, ७४, तदु १४, महा)।
 सिभलि देखो सिवालि = शालमलि (सुपा ८४)।
 सिभि वि [श्लेषिमन्] श्लेषम-युक्त, श्लेषम-रोगी (सुपा ५७६)।
 सिभिय वि [श्लेषिमक] श्लेषम-सम्बन्धी (तदु १६, याया १, १—पत्र ५०, औप, पि २६७)।
 सिंह पु [सिंह] १ श्वापद पशु विशेष, मृग-राज, केसरी (प्रासु १५४, १६६)। २ एक राज-कुमार (उप ६८६ टी)। ३ एक राजा (रयण २६)। ४ भगवान् महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेष (राज)। ५ व्रत-विशेष, त्रिनिधाहार की सलेखना—परिरयाग (सवोष ५८)। ६ अलोअण (अप) न [वल्लोकन] १ सिंह की तरह पीछे देवना। २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ उर न [पुर] १ गजव देश का एक प्राचीन नगर (भवि)। ४ कण्णी ली [कर्णी] वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५)। ५ केसर पु [केसर] एक प्रकार का उत्तम मोदक—तदुङ्ग (उप २११ टी)। ६ दत्त पु [दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम। २ वि सिंह ने दिया हुआ (हे १, ६२)। ३ दुवार न [द्वार] राज-द्वार (मोह १०३)।

सन्धिवर देखो सन्धिवर = सन्धिवर ।

सन्धोसहि लो [सर्वोपधि] १ लब्ध-विशेष, जिसके प्रभाव से शरीर की कफ आदि सब चीज औपधि का काम करती है (पह २, १—पत्र ६६) । २ वि लब्ध विशेष को प्राप्त (राज) ।

सस अक [श्वस] श्वास लेना, ससिना । ससइ (रण ६) । वक्र ससत (याया १, १—पत्र ६३, गा ५४६, सुर १२, १६४, नाट—मुच्छ २२०) ।

सस पुं [शश] खरगोश (याया १, १—पत्र २४, ६५) । इध पु [चिह्न] चन्द्रमा (गउड) । हर पु [वर] चन्द्रमा (याया १, ११, सुर १६, ६०, हे ३, ८५, कुमा, वज्जा १६, रभा) ।

ससरु पुं [सशाङ्क] १ चन्द्रमा, चाँद (कप्प, सुर १६, ५५, सुपा २०, कप्प, रभा) । २ नृप-विशेष (पउम ५, ४३, ८५, २) । धम्म पु [धर्म] विद्याधर वश का एक राजा (पउम ५, ४४) ।

ससक देखो स-सरु = स-शङ्क ।

ससकिअ देखो स-सकिअ = स शङ्कित ।

ससग देखो ससरु = शशाङ्क ।

ससवेयण देखो स-सवेयण = स्व-संवेदन ।

ससक्ख वि [ससाक्ष्य] साक्षीवाला (राय १४०) ।

ससग पु [शशक] देखो सस = शश (उव) ।

ससण पुं [श्वसन] १ शूण्डा-दण्ड, हाथी की सूँड (तदु २०, औप) । २ वायु, पवन । ३ न. निवास (राज) ।

ससत्ता देखो स-सत्ता = स-सत्त्वा ।

ससरक्ख वि [सरजस्क, सरक्ष] १ रजो-युक्त, धूलोवाला (आचा २, १, ६, ३, २, २, ३, ३३, आच ४) । २ पु. बौद्ध मत का साधु (खुव १८, ४३, महा) ।

ससराइअ वि [दे] निष्पिट, पिसा हुआ (दि ८, २०) ।

ससा लो [स्वस्] वहन, भगिनी (पिड ३१७, हे ३, ३५, कुमा) ।

ससि पुं [शशिन] १ चन्द्रमा, चाँद (सुज २०—पत्र २६१, उव, कप्प, कुमा, पि ४०५) । २ एक विद्यार्थी का नाम (पउम ५, ६४) । ३ चन्द्र नाडी, वाम नाडी (सिरि ३६१) । ४ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) । ५ छन्द-विशेष (पिग) । ६ एक राजा का नाम (उव) । ७ दक्षिण रुक्क पर्वत का एक कूट (ठा ८—पत्र ४३६) । अत पु [कान्त] चन्द्रकान्त मणि (अचु ५८) । अला लो [कला] चन्द्र की कला, सोलहवाँ भाग (गउड) । अत देखो अत (कुमा, सण) । पभ, पह पु [प्रभ] १ आठवें जिनदेव, भगवान् चन्द्रप्रभा । २ इस्वाकु वश का एक राजा (पउम ५, ५) । पह लो [प्रभा] एक रानी, कर्पूरमजरी की माता (पउम ६, ६१, कप्प) । मणि पु [मणि] चन्द्रकान्त मणि (स ६, ६७) । लेहा लो [लेखा] चन्द्र की कला (सुपा ६०३) । वक्कय न [वक्कक] आभूषण विशेष (औप) । वेग पु [वेग] एक राज-कुमार (उप १०३१ टी) । सेहर पु [शेखर] महादेव, शिव (सुपा ३३) ।

ससिअ न [श्वसित] श्वास, साँस (से १२, ३२) ।

ससिण देखो ससि (कप्प) ।

ससिणिद्ध वि [सरिन्ध, सरिन्ध] स्नेह-युक्त (आचा २, १, ७, ११, कप्प) ।

ससिस्थ न [ससिक्थ] आटा आदि से लिप्त हाथ या वरतन आदि का धोवन (पडि) ।

ससिरिय } देखो स-सिरिय = स-श्रीक ।
ससिरीय }

ससिह देखो स-सिह = स-स्पृह, स शिख ।

ससुर पु [श्वसुर] सपुर, पति और पत्नी का पिता (पउम १८, ८, हेका ३२, कुमा, सुपा ३७७) ।

ससुग देखो स-सुग = स-शूक ।

ससेस देखो स-सेस = स-शेष ।

ससोग } देखो स-सोग = स-शोक ।
ससोगिह }

सस्स न [शस्य] १ क्षेत्र-गत धान्य (गा ६८६, महा, सुपा ३२) । २ वि प्रशसनीय, श्लाघ्य (सुपा ३२) । देखो सास = शस्य ।

सस्सवण वि [सश्रवण] सकर्ण, निपुण (सुपा ६४५) ।

सरिसय पु [शस्यिक] कृषीवल, कृक (राज) ।

सरिसरिअ देखो स-सरिसरिअ = स-श्रीक ।

सरिसरिली देखो सिसरिली (उत ३६, ६८) ।

सरिसरीअ देखो स-सरिसरीअ = स-श्रीक ।

सस्सु लो [श्वश्रु] सास, पति या पत्नी का माता (प्राक् ३८, सिरि ३५५) ।

सह अक [राज] शोभना, विराजना । सह (हे ४, १००, पात्र, कुमा, सुपा ४) ।

सह अक [सह] सहन करना । सह, सहति (उव, महा, कुमा), सहदे, सहदेरे (पि ४५८) वक्र सहत, सहमाण (पह ७५) । सक, सहिअ (महा) । हेक, सहिउ, सोहुं (महा, धावा १५५, १५७) । सहिअव्व, सोढव्व (धावा १५५, सुर १४, ८०, गा १८, कप्प, उप ७२८ टी, धावा १५७) ।

सह सक [आ + ज्ञा] हुकुम करना, श्राव्य करना, फरमाना । सहइ (धावा १५५) ।

सह वि [दे] १ योग्य, लायक (दि ८, १) । २ सहाय, मदद-कर्ता (सूम १, ३, २, ६) ।

सह वि [स्वरु] देखो स = स्व (आचा) ।

देस पु [देश] स्वदेश, स्वकीय देश (पिग) ।

सवुद्ध वि [सवुद्ध] १ निज से ही जान को प्राप्त । २ पु. जिन-देव (औप) ।

सह वि [सह] १ समर्थ, शक्तिमान् (पात्र से ५, २३) । २ सहिष्णु, सहन-कर्ता (आचा) । ३ पु. युगलिक मनुष्य की एक जाति (इक, राज) । ४ अ साथ, सग (स्व ३४, आचा, जी ४३, प्राप् ३८) । ५ युगल, एक साथ (राज) । वार पु [कार] १

आम का पेड (कप्प) । २ साथ मिलकर काम करना । ३ मदद, साहाय्य (हे १ १७७) ।

कारि वि [कारि] १ साहाय्य-कर्ता (पचा ११, १२) । २ कारण विशेष (निज ११६८, आचक २०६) । गत, गय वि

[गत] सयुक्त (परण, २२—पत्र ६३०, उव) । गारि, गारिअ देवा कारि (पनव ३०६, उप ७७२, उवर ७६) । चर देखो

सिञ्चत } देखो सिच = सिच् ।
सिञ्चमाण }

सिञ्छा बी [स्वेच्छा] स्वच्छन्द (सुपा ३१६) ।

सिञ्ज अक [सिञ्ज] पसीना होना । सिञ्जइ (पङ् २०३) । वङ्ग सिञ्जत (नाट—उत्तर ६१) ।

सिञ्ज^० देखो सिञ्जा (सम्मत १७०) ।

सिञ्जभण पु [शय्यभण] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन महर्षि (कल्प—पृ ७८, एदि) ।

सिञ्जंस देखो सेज्जस = श्रेयास (कल्प, पडि, आचा २, १५, .) ।

सिञ्जा बी [शय्या] १ विद्यौना (सम १५, उवा, सुपा ५३३) । २ उपाध्यय, वसति (श्रौच १६७) । ३ तरी, यरा बी [तरी] उपाध्यय की मालकिन (श्रौच १६७, पि १०१) । ४ वाली बी [पाली] विद्यौना का काम करनेवाली दासी (सुपा ६४८) । देखो सेजा ।

सिञ्जिअ (अप) वि [सृष्ट] उत्पन्न किया हुआ, बनाया हुआ (पिण) ।

सिञ्जिर वि [स्वेत्त] जिसको पसीना हुआ करता हो वह, पसीनावाला (गा ४०७, ४०८, ७७४, कुमा) । बी ०री (हे ४, २२४) ।

सिञ्जूर न [दे] राज्य (दे न, ३०) ।

सिञ्ज्म अक [सिध्] १ निष्पन्न होना, बनना । २ पकना । ३ युक्त होना । ४ मगल होना । ५ सक, गति करना, जाना । ६ शासन करना । सिञ्जइ (हे ४, २१७, भग, महा) सिञ्जति (कल्प) । भूका सिञ्जन्तु (भग, पि ५१६) । भवि सिञ्जहिइ, पिञ्जिहत्सति, सिञ्जिहति, सिञ्जिहो (उवा, भग, पि ५२७, महा) । वङ्ग सिञ्जन् (पिङ् २५१) ।

सिञ्ज्म देखो सिंम (राज) ।

सिञ्जभगया } बी [सोधन] १ सिद्धि, युक्ति,
सिञ्जभा } मोक्ष, निर्वाण (सम १४७,
उप १३१, ७६६, पव नन, धर्मो १५१,
वित्ते ३०३५) । २ निष्पत्ति, साधना,

'सबो परोववार करेइ

नियकजसिञ्जणाभिरभो ।

निरविञ्जो नियकज्जे

परोववारो ह्वइ धनो ॥'

(रयण ४६) ।

सिद्ध वि [श्रेष्ठ] अति उत्तम (उप न७६) ।

सिद्ध वि [सृष्ट] १ रचित, निर्मित (उप ७२८ टी, रभा) । २ युक्त । ३ निश्चित । ४ भूयित । ५ बहुल, प्रचुर । ६ व्यक्त (हे १, १२८) ।

सिद्ध वि [शिए] १ कथित, उक्त, उपदिष्ट (सुर १, १६५, २, १८४, जी ५०, वजा १३६) । २ सजन, भलामानस, प्रतिष्ठित (उप ७६८ टी, कुप्र ६४, सिरि ४५, सुपा ४७०) । ३ यार पु [ाचार] भलमनसो, सदाचार (धर्म १) ।

सिद्ध वि [हे] तो कर उठा हुआ (षड्) ।

सिद्धि बी [सृष्टि] १ विश्व-निर्माण, जगद्-रचना (सुपा १११, महा) । २ निर्माण, रचना । ३ स्वभाव । ४ जिसका निर्माण होता हो वह (हे १, १२८) । ५ सीधा क्रम, अविपरोत क्रम, 'चक्काइ जतजोगेण सिद्धि-निसिद्धिकमेण एगतिय भमताइ' (सिरि न७८) ।

सिद्धि पु [दे. श्रेष्ठिन] नगर सेठ, नगर का मुख्य साहूकार, महाजन (कल्प, सुपा ५८०) । ०पय न [०पद्] नगर सेठ की पदवी (सुपा ३४२) । देखो सेद्धि ।

सिद्धिणी बी [श्रेष्ठिनी] श्रेष्ठि-पत्नी, सेठानी (सुपा १२) ।

सिद्धी बी [दे] सीढ़ी, नि श्रेणि (अचक ७०) ।

सिद्धि वि [श्रित्थिर, श्रित्थिल] १ श्रथ, ढोला । २ अष्टद, जो मजबूत न हो वह । ३ मन्द (हे १, २१५, २५४, प्राय, कुमा, प्रासू १०२, गउड) ।

सिद्धि सक [श्रित्थिल्य] श्रित्थिल करना । सिद्धिइ, सिद्धित्ति, सिद्धित्ति (उव, वजा १०, से ६ ६५) सिद्धिहि (वेणो २४३, पि ४६८) । वङ्ग, सिद्धिल्लेत्त (से ५, ४२) ।

सिद्धिलाविथ वि [श्रित्थिल्लित] श्रित्थिल करया हुआ (प्राङ् ६१) ।

सिद्धिलिअ वि [श्रित्थिल्लित] श्रित्थिल किया हुआ (कुमा, गउड, भवि) ।

सिद्धिलीक्य वि [श्रित्थिल्लित] श्रित्थिल किया हुआ (सुर २, १६, १७३) ।

सिद्धिलीभूय वि [श्रित्थिल्लिभूत] श्रित्थिल बना हुआ (पठम ५३, २४) ।

सिण देखो सण = शण (जी १०, सुपा १८६, गा ७६८) ।

सिणगार देखो सिंगार = शृङ्गार, 'सिणगार-चारवेसो' (सबोध ४७), 'कारिअसुरसुदरिसिणगार' (सिरि १५८) ।

सिगा अक [स्ना] स्नान करना, नहाना ।

सिगाइ (सुभ १, ७, २१, प्राङ् २८) ।

संङ्ग सिणाइत्ता (सुभ २, ७, १७) । हेङ्ग, सिणाइत्ताए (भौप) ।

सिणाउ पुंबी [स्नायु] नाडी-विशेष, वायु वहन करनेवाली नाडी (प्राङ् २८) ।

सिणाण उ [स्नान] नहान, अवागाहन (यम ३५, श्रौच ४६६, रयण १४) ।

सिणात देखो सिणाय = स्नात (ठा ४, १—पत्र १६३, ५, ३—पत्र ३३६) ।

सिणाय देखो सिणा । सिणायति (वस ६, ६३) । वङ्ग सिणायत (वस ६, ६२, पि १३३) ।

सिणाय } वि [स्नात, ०क] १ प्रधान,
सिणायग } श्रेष्ठ (सुभ २, २, ५६) । २
सिणायय } मुनि-विशेष, केवलज्ञान प्राप्त
मुनि, केवली भगवान् (भग २५, ६, एदि १३८ टी, ठा ३, २—पत्र १२६, धर्मस १३५८, उक्त २५, ३४) । ३ बुद्ध शिष्य, बोधि सत्त्व (सुभ २, ६, २६) ।

सिणाव सक [स्नपय] स्नान कराना ।

सिणावेदि (शौ) (नाट—चैत ४४) ।

सिणावति, सिणावैति (आचा २, २, ३, १०, पि १३३) ।

सिणि बी [सृष्टि] अकुश (सुपा ५३७, सिरि १०५८) ।

सिणिज्म अक [सिंह] प्रीति करना । सिणिज्मइ (प्राङ् २४) । कर्म, सिणइ (हे ४, २५५) । कचङ्ग सिणपत (कुमा ७, ६०) ।

सिणिद्ध वि [सिन्ध] १ प्रीति-युक्त, स्नेह-युक्त (स्वप्न ५३, प्रासू ६२) । २ आइ, रस-युक्त (कुमा) । ३ मखण, कोमल । ४ चिकना । ५ न भात का मडि (हे २, १०९, प्राण) ।

सहिआ देखो सही (महा) ।

सहिज्ज वि देखो सहाअ = सहाय, 'हुति सहिज्जा विहुरे कुवियावि सहोयरा चेव' (सुपा ४२७, महा, कुप्र १२) । ली. 'ज्जी' (सुपा १६ टि) ।

सहिण देखो सण्ह + श्लक्षण (आचा २, ५, १, ७, स २६४, ३२६, ३३३) ।

सहिण्हु } वि [सहिष्णु] सहन करने की
सहिर } आदतवाला (राज, पि ५६६) ।
ली 'री' (गा ४७, पि ५६६) ।

सही ली [सखी] सहेली, सगिनी (स्वप्न १४१, कुमा) ।

सही^० देखो सहि । वाय पु [वाद्] मित्रता-सूचक वचन (सूअ १, ६, २७) ।

सहीण वि [स्वाधीन] स्वायत्त, स्व-वश (पउम २७, १७, उव, दस ८, ६) ।

सहु वि [सह] समर्थ, शक्तिमान् (श्रोष, ७७, श्रोषभा ६८, उवर १४२, वव ४) ।

सहु (अप) देखो सच (सकि ३६) ।

सहुं (अप) अ [सह] साथ, सग (हे ४, ४१६, कुमा) ।

सहेज्ज देखो सहिज्ज (महा) ।

सहेर (अप) पु [शेखर] पट्पद छन्द का एक भेद (पिंग) ।

सहेल वि [सहेल] हेला-युक्त, अनायास होनेवाला, सरल, गुजराती में 'सहेलु' (प्रवि ११) ।

सहोअर वि [सहोअर] ? तुल्य, सदृश (से ६, ४) । २ पु सगा भाई (गाप्र, काल) ।

सहोअरी ली [सहोअरी] सगी बहिन (राज) ।
सहोअ वि [सहोअ] चोरी के माल से युक्त, स-मोष (पिड ३००, णाया १, २—पत्र ८६) ।

सहोअर देखो सहोअर (सुपा २४०, महा) ।

सहोअिअ वि [सहोअित] एक-स्थान-वासी (दे १, १४६) ।

साअड्ड सक [कृप] ? चाप करना, कृपि करना । २ खीचना । साअड्ड (हे ४, १८७, पड) ।

साअड्डिअ वि [कृष्ट] खोचा हुआ (कुमा ७, ३१) ।

साअद् (शौ) देखो सागद् (अभि १०२, नाट—मृच्य ४, पि १८५) ।

साइ वि [शायिन्] सोनेवाला, शयन-कर्ता (सूअ १, ४, १, २८, आचा, दस ४, २६) ।

साइ वि [सादि] ? आदि-सहित, उत्पत्ति-युक्त (सम्म ६१) । २ न संस्थान-विशेष, शरीर की आकृति विशेष जिस शरीर में नामि से नीचे के अवयव पूर्ण और नामि के ऊपर के अवयव हीन हो ऐसी शरीराकृति (सम १४६, अणु) । ३ कर्म-विशेष, सादि-संस्थान की प्राप्ति का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ४०) ।

साइ न [साचि] ? सेमल का पेड़, शाल्मली वृक्ष । २ संस्थान-विशेष, देखो साइ = सादि का दूसरा और तीसरा अर्थ (जीव १ टी—पत्र ४३) ।

साइ पुळी [स्वाति] ? नक्षत्र-विशेष (सम २६, कप्प), 'सा साई त च जल पत्तविसेसेण अतर गच्छ' (आसू ३६) । २ पु भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५४) । ३ एक जैन मुनि (एदि ४६) । ४ हैमवत-वर्ष के शब्दापाती पर्वत का अधिष्ठायक देव (ठा २, ३—पत्र ६६, ८०) ।

साइ पु [सादिन्] घुडसवार (उप ७२८ टी) ।

साइ पुळी [साति] ? अच्छी चीज के साथ खराब चीज का मिश्रण, उत्तम वस्तु के साथ हीन वस्तु की मिलावट (सूअ २, २, ६५) । २ अविश्रम, अविशवास । ३ असत्य वचन, झूठ (पएह १, २—पत्र २६) । ४ सातिशय द्रव्य, अपेक्षा कृत अच्छी चीज (राज ११४) । 'जोग पु [थोर] ? मोहनीय कर्म (सम ७७) । २ अच्छी चीज से हीन चीज की मिलावट (राय ११४ टी) । 'सपओग पु [सप्रयोग] वही अर्थ (राय ११४) ।

साइ पुंली [दे] केसर, 'सालतले सारिठिया अचइ चडि ससाइपउमेहि' (दे ८, २२) ।

साइज्ज सक [स्वाद, सात्मी + कृ] ? स्वाद लेना, खाना । २ चाहना, अभिलाष करना । ३ स्वीकार करना, ग्रहण करना । ४ आसक्ति करना । ५ अनुमोदित करना । ६ उपभोग करना । साइज्जइ, साइज्जामो (आचा, कस, कप्प—टी, भग १५—म ६८०, श्रौप), साइज्जेज्ज (आचा २, १, ३, २) । अवि साइज्जिस्सामि (आचा) । हेऊ साइज्जित्तए (श्रौप) ।

साइज्जण न [स्वादन] अभिषङ्ग, आसक्ति (विसे २६८५) ।

साइज्जणया ली [स्वादन] उपभोग, भोग (ठा ३, २ टी—पत्र १४७) ।

साइज्जिअ वि [दे] अवलम्बित (दे ८, २६) ।

साइज्जिअ वि [स्वादिन] ? उपभुक्त (कप्प—टी) । २ उपभुक्त सम्बन्धी । ली, 'या (कप्प) ।

साइम वि [स्वादिम] पान, सुपारी आदि मुखवास (ठा ४, २—पत्र २१६, आचा उवा, श्रौप, सम २६) ।

साइय वि [सादिऋ] आदिवाला (कम्म १, ६, तव ३६) ।

साइय देखो सागय = स्वागत (सुर ११, २१७) ।

साइय न [दे] सस्कार (दे ८, २५) ।

साइयकार वि [दे] स-प्रत्यय, विधत् (पिडभा ४२) ।

साइरेग वि [सातिरेक] साविक, सविशेष (सम २, भग) ।

साइसय वि [सातिशय] प्रतिशयवाला (महा, सुपा ३६७) ।

साई देखो साई = शची (इक) ।

साल वि [सालु] स्वादवाला, मधुर (पिड १२८, उप ६७, से २, १८, कुमा, हे १, ५) ।

साउग वि [स्वादुक] स्वादिष्ठ भोजनवाला, मधुर भोजनवाला, 'कुलाइ जे चावइ साउगाई' (सूअ १, ७, २३) ।

साउज्ज न [साउयुज्ज] सहयोग, सहानु (अचु ६५) ।

८—पत्र ४४०, श्रौष, इक)। २ युक्ति, निर्माण, मोक्ष (डा १—पत्र २५, पडि, श्रौष, कुमा)।
३ कर्म-स्य (सूत्र २, ५, २५, २६)। ४ अणुमा आदि योग की शक्ति (डा १)। ५ कृतायता, कृतकृत्यता (डा १—पत्र २५, कम्प, श्रौष)। ६ निष्पत्ति, 'न कयाद् दुक्वि-
णोभो सकञ्जसिद्धि समायेद' (उच)। ७ सम्बन्ध (दसन १, १२२)। ८ छन्द विशेष (पिम)। ९ गूढ जो [गि] मुक्ति-स्थान मे गमन (कम्प, श्रौष, पडि)। १० गडिया जो [गण्डिका] शन्य प्रकार-विशेष (भाग ११, ६—पत्र ५२१)। ११ पुर न [पुर] तपर-
विशेष (कुप्र २२)।

सिद्ध वि [शीर्ष] जोरुं, गला हुया (सुपा ११, विदे ७० टी)।

सिद्ध देखो सिष्ण = स्विन्न (सुपा ११)।

सिद्ध लीन [सैन्य] ? मिला हुया हाथी-बोडा आदि। २ सेना का सप्रुवय (हे १, १५०, कुमा)। जो 'ता अणदिये नये पवेदिथ सत्तुधिनाए' (पुर १३, १०४)।

सिष्प देखो सिंप। सिष्प (पड)।

सिष्प न [दे] पलाल, पुआल, तुण-विशेष (दे ८, २८)।

सिष्प न [शिरप] काठ-कार्य, कारोगरी, चित्रादि-विज्ञान, कला, हुनर, क्रिया-कुशलता (परह १, ३—पत्र ५५, उवा, प्रासू ८०)। २ तेजस्काय, अग्नि-सथास। ३ अग्नि का जीव। ४ पु तेजस्काय का अधिष्ठाता देव (डा ५, १—पत्र २६२)। ५ सिद्ध पु [सिद्ध] कला में अतिकुशल (आवम)। ६ जीव वि [जीव] कारोगर, कला—हुनर से जीविका-निबह करनेवाला (डा ५, १—पत्र २०३)।

सिष्पा जो [सिष्पा] नदी विशेष, जो जलैत के पास से गुजरती है (स २६३, उप पु २१८, कुप्र ५०)।

सिष्पि वि [शिष्पिन्] कारोगर, हुनरी, चित्र आदि कला में कुशल (श्रौष, मा ८)।

सिष्पि जो [शुक्ति] सोप, घोषा (हे २, १३८, उग, पड, कुमा, प्रासू ३६, पि ३८५)।

सिष्पिअ वि [शिष्पिक] शिल्पी, कारोगर (महा)।

सिष्पिअ न [दे] तुण-विशेष, पलाल, पुआल (परह १—पत्र ३३, गा ३३०)।

सिष्पो जो [दे] सूची, सूई (पड)।

सिष्पीर देखो सिष्पिअ (गा ३३० अ, पि २११)।

सिष्पिअ देखो सिष्पिअ (पत्रम १०, २७)।

सिष्पिअ देखो सिष्पिअ (चड)।

सिष्पा जो [शिष्पा] वृक्ष का जटाकार मूल (हे १, २३६)।

सिष्म स [सिष्म] सर्व, सब (प्राभा)।

सिष्म देखो सीमा, 'जाव सिमसनिहाए पत्तो नगरस्स वाहिउज्जाणे' (सुपा १६२)।

सिष्मसिम } शक [सिष्मसिमाय] 'सिम सिमसिमाय' सिष्म आवाज करता। सिष्म-सिमायति (बजा ८२)। वक्क सिमसिमत (गा ५६१ अ)।

सिष्मिण देखो सुमिण (हे १, ४६, २५६)।

सिष्मिअ (अप) देखो सिष्पिअ (अवि)।

सिष्मिसिम } देखो सिष्मसिम। वक्क सिमसिमाअ } सिष्मिसिमत, सिष्मिसि-
माअत (गा ५६०, पि ५५८)।

सिष्मिसिमिय वि [सिष्मिसिमिअ] 'सिम सिष्म' आवाज करनेवाला (पत्रम १०५, ५५)।

सिष् सक् [सुज्] ? बनाना, निर्माण करना। २ छोडना, त्याग करना। सिष्ड (पि २३५, सिरामि (विसे ३५७६)।

सिष् न [शिरस] ? मस्तक, माथा, सिर (प्राभा, कुमा, गवड)। २ प्रधान, श्रेष्ठ। ३ अप्र भाग (हे १, ३२)। ४ क न [क] शिरलाए, मस्तक का अक्षर (दे ५, ३१, कुमा, कुप्र २६२)। ५ ताण, चाण न [त्राण] वही पूर्वोक्त अर्थ (कुमा, स ३८५)।

६ बस्थि जो [वस्थि] निकिल्सा विशेष, सिर में चर्म-कीरा देकर उसमें सक्कत तेल आदि पूरने का उपचार (विपा १, १—पत्र १४), 'सिरावेहेहि (?)सिरवलोहिण' (शाया १, १३—पत्र १८१)। ७ मणिय देखो सिरो मणि (सुपा ५३२)। ८ य पु [ज] केश, बाल (भाग, कम्प, श्रौष, स ५७८)। ९ हर न

[गूह] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला (दे ३, ४६)। देखो सिरो°।

सिर् देखो सिरा (जो १०)।

सिरिय } देखो सिर = शिरस् (कम्प, परह
सिरस } १, ४—पत्र ६८, श्रौष)।

सिरसावत्त वि [शिरसावर्त, शिरस्थानवर्त] मस्तक पर प्रदक्षिणा करनेवाला; शिर पर परिभ्रमण करता (शाया १, १—पत्र १३, कम्प, श्रौष)।

सिरा जो [शिरा, सिरा] ? रथ, नस, नाडी (शाया १, १३—पत्र १८१, जो १०, जीव १)। २ धारा, प्रवाह (कुमा, उप पु ३६६)।

सिर्दि° देखो सिरो (कुमा, जो ५०, प्रासू ५२, ८०, कम्प १, १, पि ६८)। उक्त पु° [पुत्र] भारतवर्ष में होनेवाला एक चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। ३ र न [पुर] नगर-विशेष (उप ५५०)। ४ कंठ पु° [कण्ठ] ? शिव, महादेव (कुमा)। ५

वातरद्वीप का एक राजा (पत्रम ६, ३)। ६ कन पुन [कान्त] एक देव-विमान (सम २७)। ७ कता जो [कान्ता] ? एक राज-पत्नी (पत्रम ८, १८७)। ८ एक कुलकर-पत्नी (सम १५०)। ९ एक राज-कन्या (महा)। ४ एक पुष्करिणी (इक)। ५ कद-
छया पु [कन्दलक] पशु-विशेष, एक-
छुटा जालवर की एक जाति (परह १—
पत्र ४६)। ६ करण न [करण] ? व्याया-
यालय, न्याय-मन्दिर। ७ कैसला (सुपा
३६१)। ८ करणीय वि [करणीय] शी
करण-संबन्धी (सुपा ३६१)। ९ कूड पुन
[कूट] हिमवत पर्वत का एक शिखर
(राज)। १० खड न [खण्ड] अन्ध (सुर
२, ५६, कम्प)। ११ गरण देखो करण (सुपा
४२५)। १२ गीव पुं [ग्रीव] राक्षस वध का
एक राजा, एक लका-पति (पत्रम ५, २६१)।
१३ गुत्त पु [गुम्] एक जैन महर्षि (कम्प)।
१४ र न [गूह] भवार, खजाना (शाया १,
१—पत्र ५३, सुमनि ५५)। १५ बस्थि वि
[गूहिक] भवार, खजाना (विसे
१४२५)। १६ चद पुं [चन्द्र] ? एक प्रसिद्ध
जैनाचार्य और ग्रन्थकार (पत्र ४६, सुपा
६५८)। १७ ऐरवत क्षेत्र में होनेवाले एक

साडी ली [शाटी] बन्न, कपडा (कुप्र ४१२) ।
साडी ली [शकटी] गाडी । कम्म पुन
[कर्मन्] गाडी बनाना, बेचना, चलाना
आदि शकट-जीविका (उवा, आ २२) ।

साडीया देखो साडिआ, 'जह उल्ला साडीया
आसु सुकइ विरल्लिया सती' (विसे ३०३२) ।

साडोल्लय देखो साडअ (एया १, १८—
पत्र २३५) ।

साण सक [शाणय्] शाण पर चढाना,
तीक्ष्ण करना । साण्णज्जदि (शौ) (जाट) ।

साण पुळी [श्वान] १ कुत्ता (पात्र, परह १,
१—पत्र ७, प्रासू १६६, हे १, ५२) । ली,
णी (सुपा ११४) । २ पु छन्द विशेष
(पिग) ।

साण वि [श्यान] निविड, घनीभूत (गा
६८२) ।

साण पु [शाण, शान] शन्न को घिस कर
तीक्ष्ण करने का यन्त्र (गड, रभा) ।

साण वि [शाण] सन का बना हुआ, पाट का
बना हुआ । ली, णी (दस ५, १, १८) ।

साण देखो सासायण (कम्म ३, २१) ।

साणइअ वि [दे. शाणित] उत्तेजित (दे ८,
१३) ।

साणय न [शाणक] सन का बना हुआ बन्न
(ठा ५, ३—पत्र ३३८, कस) ।

साणि ली [शाणि] सन का बना हुआ
कपडा (दस ५, १, १८) ।

साणिअ वि [दे.] शान्त (षड्) ।

साणी देखो साण = श्वान ।

साणी ली [शाणी] देखो साणि, 'साणीपा-
वारपिहिअ' (दस ५, १, १८) ।

साणु पुंन [सानु] पर्वत पर का समान भूमि-
वाला प्रदेश (पात्र, सुर ७, २१४, स ३६५) ।
भंत पुं [भन्] पर्वत (उप १०३१ ली) ।
लड्डिया ली [यटिका] ग्राम विशेष
(राज) ।

साणुकोस वि [सानुकोश] दयालु (ठा ४,
४—पत्र २८५, परह १, ४—पत्र ७२,
स्वप्न २६, ४४, वसु) ।

साणुपग न [सानुप्रग] प्रात काल, प्रभात-
समय (वह १) ।

साणुवध वि [सानुवन्ध] निरन्तर, अचिञ्च
प्रवाहवाला (उप ७७२) ।

साणुवीय वि [सानुवीज] जिसमे उत्पादन-
शक्ति नष्ट न हुई हो वह बीज (आचा २, १,
८, ३) ।

साणुवाय वि [सानुवात] अनुकूल पवन-
वाला (उव) ।

सणुसय वि [सानुशय] अनुताप युक्त (अभि
१११, गड) ।

साणूर न [दे.] देव गृह, देव-मन्दिर (दे ८,
२४) ।

सात न [सात] १ सुख (ठा २, ४) । २
वि, सुखवाला । ली ता (परण ३५—पत्र
७८६) । वेयणिज्ज न [वेदनीय] सुख
का कारण-भूत कर्म (ठा २, ४—पत्र ६६) ।

साति देखो साइ = स्वाति, सादि, साचि, साति
(सम २, ठा २, ३—पत्र ८०, ६—पत्र ३५७,
जीव १—पत्र ४२, परह १, २—पत्र २६,
सम ७१) ।

सातिज्जणया देखो साइज्जणया (ठा ३,
३—पत्र १४७) ।

साद पु [साद्] अवसाद, जेद (दे १, १६८) ।

सादिन्व वि [सदैव] देवता-प्रयुक्त, देव कृत
(पत्र २६८) ।

सादिन्व देखो सादेव्व (पिड ४२७) ।

सादीअ देखो साइय = सादिक (भग, औप) ।

सादीणगगा ली [सादीनगङ्गा] आजीविक
मत मे उक्त एक परिमाण (भग १५—पत्र
६७४) ।

सादेव्व न [सादिच्य] देव का अनुग्रह—
सानिध्य, 'सादेव्वाणि य देवयाओ करंति
सच्चवयणे रयाण' (परह २, २—पत्र ११४,
उप ८०३) ।

साद्दूलसट्ट (अप) देखो सद्दूलसट्ट
(पिग) ।

साध देखो साह = साधय् । साधंति (सुख
१०, १७) ।

साधग देखो साहग (धर्मस १४२, ३२३) ।

साधम्म देखो साहम्म (धर्मस ८७७) ।

साधम्मिअ देखो साहम्मिअ (पउम ३५,
७४) ।

साधारण देखो साहारण = साधारण (वि
८२) ।

साधारणा ली [सधारणा] वासना, वास्य,
स्मरणशक्ति (एवि १७६) ।

साधीण देखो साहीण (नाट—मालती १११) ।

सापद् (शौ) देखो सावय = आपद (नाट—
शकु ३०) ।

साफल } देखो साहल (विसे २५३)
साफलया } उप ७६८ टी, धर्मवि ६६, ७
७०८, ७०९) ।

सावाह वि [सावाध] आवाधा सहित (ज
३३६ टी) ।

साभरग पुं [दे साभरक] कप्या, सोन
आने का सिक्का (पत्र १११) ।

साभन्व देखो साहन्व (विसे १३६) ।

साभाविक } देखो साहाविक (सुम्मि १६)
साभाविय } कल्प, आवक २५८ टी) ।

साम पुन [सामन्] १ शत्रु को ब्रह्म करने का
उपाय-विशेष, एक राज नीति (आपा १,
१—पत्र ११, प्रासू ६७) । २ प्रिय वास्य
(कुमा, महा १४) । ३ एक वेद-शास्त्र (म,
कल्प) । ४ मैत्री, मित्रता (विसे ३५८) ।
५ शर्करा आदि मिष्ट वस्तु, 'महुरपाणा
साम' (आव १) । ६ सामायिक, समय विशेष
(ईसबोध ४५), 'साम सम च सम्म इयमां
सामाइयस्स एगट्ठा' (आव १) । 'कोट्ट'
[कोष्ठ] ऐरवत् वर्ष में उत्पन्न एकादश
जिनदेव (सम १५३) । देखो सामिन्डु ।

साम पुं [इयाम] १ कृष्ण वर्ष, काला रग
२ हरा वर्ष, नीला रग । ३ वि. काला रग
वाला । ४ हरा वर्षवाला (आचा, कुमा, ६
४, ४४) । ५ पु परमाधमी देवों की एकजा
(सम २८, सुम्मि ७२) । ६ एक जन्तु
श्यामार्थ (एवि ४६) । ७ न तुण विशेष
गन्ध-नृण (सुप्र २, २, ११) । ८ पु
आकाश, गगन (भग २, २—पत्र ७७९,
'हत्थि पु [हस्तिन्] भगवान् महा'
का सिप्य एक मुनि (भग १०, ४—
५८१) ।

सामइअ वि [प्रतीक्षित] जिसकी प्र
की गई हो वह (कुमा) ।

पद्महृद की अधिष्ठात्री देवी (ठा २, ३—
पत्र ७२)। ५ उत्तर रुचक पर रहनेवाली
एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७)।
६ देव प्रतिमा-विशेष (राया १, १ टी—पत्र
४२)। ७ भगवान् कुन्धुनाथ जी की माता
का नाम (पव ११)। ८ एक श्रेष्ठि-कन्या
(कुप्र १५२)। ९ एक श्रेष्ठि पत्नी (कुप्र
२२१)। १० देव, युद्ध आदि के नाम के
पूर्व में लगाया जाता आदर-सूचक शब्द
(पव ७, कुमा, पि ६८)। ११ वाणी।
१२ वेप-रचना। १३ धर्म आदि पुष्पाधर्म।
१४ प्रकार, भेद। १५ उपकरण, साधन।
१६ बुद्धि, मती। १७ अधिकार। १८ प्रभा,
तेज। १९ कीर्ति, यश। २० सिद्धि। २१
बुद्धि। २२ विभूति। २३ लवण, लौंग।
२४ सरल वृक्ष। २५ बिल्व-वृक्ष। २६
शोषवि-विशेष। २७ कमल, पद्म (हे २,
१०८)। देखो सिस, सिरि, सी = श्री।
सिरीस देखो सिरिस (राया १, ६—पत्र
१६०, औप, कुमा)।
सिरीसिव पु [सरीसुव] सर्प, साँप (सूभ
१, ७, १५, पि ८१, १७७)।
सिरो^० देखो सिर = शिरस्। ^०धरा (शौ)
देखो हरा (पि ३४७)। ^०मणि पु [^०मणि]
प्रधान, अग्रणी, मुख्य, 'अलससिरोमणी'
(गा ६७०, सुपा ३०१, प्रायु २७)। ^०रुह
पु [^०रुह] केश, बाल (पात्र)। ^०विअणा
श्री [^०वेचना] सिर की पीडा (हे १,
१५६)। ^०वस्थि देखो सिर-वस्थि (राज)।
^०हरा श्री [^०धरा] ग्रीवा, गला, डोक (पात्र,
राया १, ३, स ८, अभि २२४)।
मिल^० देखो सिला (कुमा)। ^०पवाल न
[^०प्रवाल] विद्रुप (औप)।
सिलय देखो सिल्वि (पात्र)।
सिलय पु [दे] उल्ल, गिरे हुए अन्न-कणो
का ग्रहण (दे ८, ३०)।
सिला श्री [शिला] १ सिल, चट्टान, पत्थर
(पात्र, प्राप्र, कप्प, कुमा)। २ ओला (स ८,
६)। ३ जउ पु न [जउ] शिलाजित,
पर्वतो से उत्पन्न होनेवाला द्रव्य-विशेष, जो
देवा के काम में आता है, शिला-रस (उप
७२८ टी, धमवि १४१)।
११४

सिलाइच्च पु [शिलादित्य] बलभीपुर का
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५)।
सिलागा देखो सलागा (स ८४)।
सिलाघ (शौ) नीचे देखो। कृ सिलाघणीअ
(प्रयो ६७)।
सिलाह सक [श्लाज्] प्रशंसा करना।
कृ. सिलाहणिज्ज (रयण १६)।
सिलाहा श्री [श्लाघा] प्रशंसा (मै ८८)।
सिलिंद पु [शिलान्द] धान्य-विशेष (पव
१५६, सवोध ४३, आ १८, वसनि ६, ८)।
सिलिध पु न [शिलिन्ध] १ वृक्ष-विशेष,
छत्रक वृक्ष, भूमिस्फोट वृक्ष (राया १, १—
पत्र २५, ६—पत्र १६०, औप, कुमा)।
२ पु पर्वत-विशेष (स २५२)। ^०निलय
पु [^०निलय] पर्वत-विशेष (स ४२४)।
सिलिव पु [दे] शिशु, बच्चा (दे ८, ३०,
सुर ११, २०६, सुपा ३४)।
सिलिट्ट वि [शिलिट्ट] १ मनोज, सुन्दर,
'अइकतविसप्पमाणमउयसुकुमालकुम्मसठिय-
सिलिट्टचरणा' (परह १, ४—पत्र ७६)।
२ सगत, सुयुक्त (औप)। ३ आलिङ्गित।
४ ससृष्ट। ५ श्लेषालकार-युक्त (हे २, १०६,
प्राप्र)।
सिलिपइ देखो सिलिवइ (राज)।
सिलिमह पु श्री [श्लेषमन्] श्लेषमा, कफ
(हे २, ५५, १०६, पि १३६)। देखो
सेमह।
सिलिया श्री [शिलिफा] १ चिरेता आदि
वृण, आषवि-विशेष। २ पाषाण-विशेष,
शस्त्र को तीक्ष्ण करने का पाषाण (राया १,
१३—पत्र १८१)।
सिलिसिअ देखो सिलिट्ट (कुमा ७, ३५)।
सिलियइ वि [श्लोपादिन्] श्लोपद नामक
रोगवाला, जिससे पैर फुला हुआ और कठिन
हो जाता है उस रोग से युक्त (भावा, बृह १)।
सिलिसुह पु [शिलिसुख] १ बाण, तीर
(पात्र, सुर ६, १४)। २ रावण का एक
योद्धा (पउम ५६, ३६)।
सिलीस देखो सिलेस = श्लिप्। सिलीसइ
(भवि)। सिलीसति (सूभ २, २, ५५)।
सिलिच्चय पु [शिलिच्चय] १ भेद पर्वत
(सुज ५)। २ पर्वत, पाहाड (रंभा)।

सिलेच्छिय पु [शिलेच्छिक] मत्स्य-विशेष
(जीव १ टी—पत्र ३६)।
सिलेम्ह देखो सिलिम्ह (षड्)।
सिलेस सक [शिलिप्] आलिङ्गन करना,
भेंटना। सिलेसइ (हे ४, १६०)।
सिलेस पु [श्लेय] १ वज्रनेप आदि सवान
(सूअनि १८५)। २ आलिङ्गन, भेंट (सुर
१६, २२३)। ३ ससर्ग। ४ दाह (हे २,
१०६, षड्)। ५ एक शब्दालकार (सुर
१, ३६, १६, २४३)।
सिलेस देखो सिलिम्ह (अनु ५)।
सिलेओ } पु [श्लोक] १ कविता, पत्र,
सिलेओ } काव्य (सुपा १६८, सुपा ५६४;
अजि ३, महा)। २ यश, कीर्ति (सूअ १,
१३, २२, हे २, १०६)। ३ कला-विशेष,
कवित्व, काव्य बनाने की कला (औप)।
सिलेच्चय देखो सिलिच्चय (पात्र, सुर १, ७,
राज)।
सिलि पु [दे] १ कुन्त, बरछा, शस्त्र-विशेष
(सुपा ३११, कुप्र २८, काल, सिरि ४०३)।
२ पीत-विशेष, एक प्रकार का जहाज (सिरि
३८३)।
सिला देखो सिला। १ पु [कार] शिला-
वट, पत्थर गढनेवाला शिल्पी (ती १५)।
सिलहग न [सिलह्लक] गन्ध-द्रव्य-विशेष
(राज)।
सिलहा श्री [दे] शीत, जाडा (से १२, ७)।
सिव न [शिव] १ मङ्गल, कल्याण। २
सुख (पात्र, कुमा, गडड)। ३ अहिंसा (परह
२, १—पत्र ६६)। ४ पुन युक्ति, मोक्ष
(पात्र, सम्मत ७६, सम १, कप्प, औप,
पडि)। ५ वि मङ्गल-युक्त, उपद्रव-रहित
(कप्प, औप, सम १, पडि)। ६ पु महादेव
(राया १, १—पत्र ३६, पात्र, कुमा,
सम्मत ७६)। ७ जिनदेव, तीर्थंकर, अर्हन्
(पउम १०६, १२)। ८ एक राजपि, जिसने
भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा
८—पत्र ४३०, भग ११, ६)। ९ पाँचवें
वासुदेव तथा बलदेव का पिता (सम १५२)।
१० देव-विशेष (राय, अणु)। ११ पौष
मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, १६)।

सारक्खेत्तु वि [सारक्षित्] सरक्षण-कर्ता
(ठा ७—पत्र ३८६) ।

सारग देखो सारय = स्मारक (आचा,
श्रीप) ।

सारज्ज न [स्वारज्य] स्वर्ग का राज्य (विसे
१८८३) ।

सारण पु [सारण] १ एक यादव-कुमार
(अत ३, कुप्र १०१) । २ रावणाधीन एक
सामन्त राजा (पउम ८, १३३) । ३ रावण
का मन्त्री (से १२, ६४) । ४ रावण का
एक सुभट (से १४, १३) । ५ न ले जाना,
प्रापण (श्रीप ४४८) ।

सारण न [स्मारण] १ याद कराना (श्रीप
४४८) । २ वि याद बिलानेवाला । स्त्री
°गिया, °णी (ठा १०—पत्र ४७३) ।

सारणा न [स्मारणा] १ याद दिलाना (सुर
१५, २४८, विचार २३८, काल) ।

सारणि } स्त्री [सारणि, °णी] १ भालवाल,
सारणी } नीक, कियारी (षण २६, कुप्र
५८) । २ परपरा (सम्मत् ७७) ।

सारथ्य न [सारथ्य] सारथिपत (आया
१, १६, पउम २४, ३८) ।

सारदा देखो सारया (रभा) ।

सारदिअ देखो सारइय (अभि ६६) ।

सारमिअ वि [दे] स्मारित, याद कराय
हुआ (दे ८, २५) ।

सारमेअ पु [सारमेय] ध्यान, कृत्ता (उप
७६८ टी, कुप्र ३६३, सम्मत् १८६, प्रासू
१५८) ।

सारमेई स्त्री [सारमेयी] कुत्तो, शुनी (सुर
१४, १५५) ।

सारय वि [शारद] शरद ऋतु का (सम
१५३, परह १, ४—पत्र ६८, विसे १४६६,
अभि १३, कम्प, श्रीप) ।

सारय वि [सारऊ] १ श्रेष्ठ करनेवाला (से
३, ४८) । २ साधक, सिद्ध करनेवाला (कम्प,
से ६, ४०) ।

सारय वि [स्मारऊ] १ याद करनेवाला । २
याद बिलानेवाला (मग, आचा १, ४, ४, १,
कम्प) ।

सारय वि [स्वारत] ग्रासवत, खूब लोन
(आचा १, ४, ४, १) ।

सारय देखो सार-य ।

सारया स्त्री [शारदा] सरस्वती देवी (सम्मत्
१४०) ।

सारव देखो सार = सारय । भवि सारविस्स
(वव १) ।

सारव सक [समा + रच्] साफ करना,
ठीक-ठाक करना, दुस्त करना । सारवइ
(हे ४, ६५), 'सारवइ समयसरणीओ' (सुर
१५, ८२) । वक्र. सारवेंत (गजड) । कवक.
सारविज्जत (सण) ।

सारव सक [समा + रम्] शुल्कात करना,
प्रारम्भ करना । सारवइ (पड) ।

सारवण न [स्मारचन] समार्जन, साफ
करना (श्रीप ७३) ।

सारविअ वि [स्मारचित] दुस्त किया
हुआ, साफ किया हुआ (दे ८, ४६, कुमा,
श्रीपमा ८) ।

सारस पु [सारस] १ पक्षि-विशेष (कम्प,
श्रीप, स्वप्न ७०, कुमा, सण) । २ छन्द-
विशेष (पिग) ।

सारसी स्त्री [सारसी] १ पड्ड ग्राम की एक
मूर्खना (ठा ७—पत्र ३६३) । भावा सारस-
पक्षी । ३ छन्द-विशेष (पिग) ।

सारसय पु [सारस्वत] १ लौकान्तिक देवो
की एक जाति (आया १, ८—पत्र १५१,
वि ३५३) ।

सारह न [सारघ] मधु, शहद (पाम, दे ८,
२७) ।

सारहि पु [सारथि] रथ हाँकनेवाला (सम
१, पाम, महा) ।

साराडि पु स्त्री [दे] पक्षि-विशेष, शरारि पक्षी
(दे ८, २४) ।

साराय अक [साराय्] साद-रूप होना ।
वक्र. सारायत (उप ७२८ टी) ।

साराय सक [सारय्] चिपकवाना, लगवाना,
सील कराना । सक. 'साराविज्जण लक्खं
नोरघत्त तय्य कय' (धर्मवि ५) ।

सारि स्त्री [शारि] १ पक्षि-विशेष, मैना (गा
५५२) । २ पासा खेलने का रग-विरग

साँचा (गा १३८) । ३ युद्ध के लिए यन्त्र-
पर्याण (दे ७, ६१, भवि) ।

सारि देखो सारी (दे) (पाम) ।

सारिअ वि [सारिक] सारवाला, 'प्रागेम-
सारिअ माणुसत्तण सच्चारिओ वम्मो' (आ
१८) ।

सारिअ वि [सारित] चिपकाया हुआ, लीन
किया हुआ; ततो कुभीए निनिच्चविज्जण तेष
सम्म मुह प्रीरुज्जण उवरि लक्खाए सारियाए'
(सम्मत् २२६) ।

सारिआ } स्त्री [सारिआ] मैना, भवि
सारिइआ } विशेष (गा ५८६, पाम, दे ८,
२४) ।

सारिक्ख न [साह्य] समानता, तरीबाइ
(हे २, १७, कुमा, धर्मस ४२५, समु १८०,
विसे ४६६) ।

सारिक्ख } वि [सह्य] समान, तरीबाइ
सारिच्छ } 'सारिक्खविपयत्तमा त्थ न्ने
किमिह सारिक्ख' (धर्मस ४२५, समु १७६,
प्राप, हे १, ४४, कुमा, गा ३०, ६४) ।

सारिच्छ देखो सारिक्ख = साह्य (हे ३,
१७, सुर १२, १२२) ।

सारिच्छिआ स्त्री [दे] दुर्वा, हूव (दे ८,
२७) ।

सारिज्जत देखो सार = सारय ।

सारिस देखो सारिस = सदय (सवि १,
वजा ११४) ।

सारिस } न [साह्य] समानता, तरीबाइ
सारिस्स } (राज, नाट—रत्ना ७६) ।

सारी स्त्री [दे] बुरी, श्रापि का प्रासन (दे ८,
२२, ६१) । २ मृत्तिका, मिट्टी (दे ८,
२२ टी) ।

सारी स्त्री [शारी] देखो सारि = शक्ति
'सज्जिओ कचणमुडासारीह हत्थी' (कुप्र
१२०) ।

सारीर वि [शारीर] शरीर का, शरीर-सम्बन्ध
(उव, सुर ४, ७५) ।

सारीरि वि [शारीरि] ऊपर दबा (सु
१२, १०, सण) ।

सारुवि } पु [सारुपिन्, °रु] वैश्या
सारुविअ } के समान देव को धारण करने
वाला रजोहरण-व्रजित स्त्री-रहित पुरुष

ग्रह । ८ वृक्ष । ९ अरव । १० चित्रक-वृक्ष ।
 ११ मयूरशिला-वृक्ष । १२ वकरे का रोम ।
 १३ वि शिखा-युक्त (ग्रहण १४२) ।
 सिंहि पु [दे] कुक्कुट, मुर्गा (दे ८, २८) ।
 सिंहिअ वि [स्पृहित] अभिलषित (कुमा) ।
 सिंहिन पुन [दे] स्तन, थन (दे ८, ३१,
 सुर १, ६०, पात्र, पद्, रभा, सुपा ३२,
 भवि, हम्मोर ५०, सम्मत् १६१) ।
 सिंहिणी बी [शिखिनी] छन्द-विशेष
 (पिंग) ।
 सिंही (अप) बी [सिंही] छन्द-विशेष
 (पिंग) ।
 सी (अप) बी [श्री] छन्द-विशेष (पिंग) ।
 देखो सिरी ।
 सीअ अक [सद्] १ विपाद करना, खेद
 करना । २ यकना । ३ पीडित होना, दुःखी
 होना । ४ फलना, फल लगना । सीअइ,
 सीअति (पि ४८२, गा ८७४), 'जया सीवति
 सीयइ' (पिड ८२), 'सीयति य सव्वअगाइ'
 (सुर १२, २) । वक्क सीअत (पात्र ५०७,
 सुपा ५१०, कुप्र ११८) ।
 सीअ न [दे] सिक्क, मोम (दे ८, ३३) ।
 सीअ वि [स्वीय] स्वकीय, निज का, 'सीयते-
 यतेस्सापडिसाहरणइयाए', 'सीओसिणा तेय-
 जेस्ता' (भग १५—पत्र ६६६) ।
 सीअ देखो सिअ = सित, 'सीआसीअं (प्राप्र) ।
 सीअ पुन [शीत] १ स्पर्श-विशेष, ठंडा स्पर्श
 (ठा १—पत्र २५, पव ८६) । ३ हिम,
 तुहिन (से ३, ४७) । ३ शीत काल (राज) ।
 ४ ठंड, जाडा (ठा ४, ४—पत्र २८७, श्रौप,
 गउड, उत २, ६) । ५ कर्म विशेष, शीत
 स्पर्श का कारण-भूत कर्म (कम्म १, ८१,
 ४२) । ६ वि. शीतल, ठंडा (भग, श्रौप,
 णाय्या १, १ टी—पत्र ४) । ७ पु प्रथम
 नरक का एक नरक-स्थान (वेवेन्द्र ४) । ८
 न तप-विशेष, आर्याविल तप (सवोष ५८) ।
 ९ वि. अनुकूल (सूत्र १, २, २, २२) ।
 १० न सुख (आचा) । ११ वर न [गृह]
 चरुमर्त्ता का बधकि-निमित्त बह धर, जहाँ सर्व
 श्रुतु में स्पर्श की अनुकूलता होती है (वव ३) ।
 १२ च्छाय वि [च्छाय] शीतल छायावाला

(श्रौप, णाय्या १, १ टी—पत्र ४) । १३ परीसह
 पु [परीषह] शीत को सहना (उत २,
 १) । १४ फास पु [स्पर्श] ठंड, जाडा, सर्दी
 (आचा) । १५ सोआ बी [ओता, सोता]
 नदी-विशेष (इक, ठा ३, ४—पत्र १६१) ।
 १६ लोअअ पु [लोक्क] १ चन्द्रमा । २
 शीतकाल, हिम-ऋतु (से ३, ४७) ।
 सीअं देखो सीआ = शीता । १७ पसाय पुं
 [प्रपात] द्रह-विशेष, जहाँ शीता नदी पहाड
 पर से गिरती है (ठा २, ३—पत्र ७२) ।
 सीअं देखो सीआ = सीता (कुमा) ।
 सीअउरय पु [दे शीतोररु] गुल्म-विशेष,
 'पत्तउरसीयउरण हवइ तह जवात्तए य बोधवे'
 (पण १—पत्र ३२) ।
 सीअण न [सदन] हैरानी (सम्मत् १६६) ।
 सीअणय न [दे] १ दुग्ध-पारी, दूध दोहने
 का पात्र । २ श्मशान, मसान (दे ८, ५५) ।
 सीअर पुं [शीकर] १ पवन से क्षित जल,
 फुहार, जल कण (हे १, १८४, गउड, कुमा,
 सण) । २ वायु, पवन (हे १, १८४, प्राक्क
 ८४) ।
 सीअरि वि [शोकरिन्] शीकर-युक्त (गउड) ।
 सीअल पु [शीतल] १ वर्तमान भ्रवसपिणी
 काल के दसवें जिन-देव (सम ४३, पडि) ।
 २ कृष्ण पुद्गल-विशेष (सुज २०) । ३ वि
 ठंडा (हे ३, १०, कुमा, गउड, रयण ५७) ।
 सीअलिया बी [शीतलिआ] १ ठंडी, शीतला,
 'सीयलिय तेमलेस्स निसिरामि' (भग १५—
 पत्र ६६६) । २ लुता-विशेष (राज) ।
 सीअलि पु बी [दे] १ हिमकाल का दुर्दिन ।
 २ वृक्ष-विशेष (दे ८, ५५) ।
 सीआ बी [शीता] १ एक महा-नदी (सम
 २७, १०२, इक) । २ ईषत्पारभारा-नामक
 प्रथिनी, सिद्ध-शिला (इक) । ३ शीताप्रपात
 द्रह की अधिष्ठात्री देवी (ज ४) । ४ नील
 पर्वत का एक शिखर । ५ माल्यवत् पर्वत का
 एक कूट (इक) । ६ पश्चिम रुक्क पर रहने-
 वाली दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६) ।
 ७ सुह न [सुख] एक वन (ज ४) ।
 सीआ बी [सीता] १ जनक-मुता, राम-पत्नी
 (पउम ३८, ५६) । २ चतुर्थ वासुदेव की

माता का नाम (पउम २०, १८४; सम
 १५२) । ३ लाङ्गल-पद्धति, खेत में हल
 चलाने से होती भूमि-रेखा (दे २, १०४) ।
 ४ ईषत्पारभारा नामक प्रथिनी (उत ३६,
 ६२, वेइय ७२५) । ५-६ नील तथा माल्य-
 वत् पर्वतों के शिखर-विशेष (इक) । ७ एक
 दिक्कुमारी देवी (ठा ८) ।
 सीआ देखो सिविया (कप्प, श्रौप, सम
 १५१) ।
 सीआण देखो मसाण = श्मशान (हे २, ८६,
 वव ७) ।
 सीआर देखो सिक्कार (णाय्या १, १—पत्र
 ६३) ।
 सीआला बी [सप्तचत्वारिशात्] सैतालीस,
 ४७, (कम्म ६, २१) ।
 सीआलीस बीत ऊपर देखो (पि ४४५,
 ४४८) । बी. सा (सुज २, ३—पत्र
 ५१) ।
 सीआव सक [सादय्] शिथिल करना,
 'सीयवेइ विहार' (गच्छ १, २३) ।
 सीइआ बी [दे] ऋषी, निरन्तर वृष्टि (दे
 ८, ३४) ।
 सीइय वि [सन्न] क्षिप्त, परिश्रान्त (स ८५) ।
 सीई बी [दे] सीढी, नि श्रेणि (पिड ६८) ।
 सीउग्गय वि [दे] सुजात (दे ८, ३४) ।
 सीउट्ट न [दे] हिम काल का दुर्दिन (षड्) ।
 सीउण्ह न [शीतोष्ण] १ ठंडा तथा गरम ।
 २ अनुकूल तथा प्रतिकूल (सूत्र १, २, २,
 २२, पि १३३) ।
 सीउल्ल देखो सीउट्ट (षड्) ।
 सीओअं देखो सीओआ । १ पपाय पुं
 [प्रपात] कुण्ड-विशेष, जहाँ शीतोदा नदी
 पहाड से गिरती है (ज ४—पत्र ३०७) ।
 २ दीव पु [द्वीप] द्वीप-विशेष (ज ४—पत्र
 ३०७) ।
 सीओआ बी [शीतोदा] १ एक महा-नदी
 (ठा २, ३—पत्र ७२, इक; सम २७,
 १०२) । २ निपव पर्वत का एक कूट (ठा
 ६—पत्र ४५४) ।
 सीकोत्तरी बी [दे] नारी, बी, महिला (सिदि
 ३६०) ।

साव सक [श्रावय्] सुनाना । सावेति (श्रौप) । वक्र. सावत, सावित, सावेत (श्रौप, राज, पउम १०, ५७) ।

साव पुं [शाप] १ सराप, आक्रोश (श्रौप, कुमा, प्रति ६६) । २ शपय. सौगव (प्राप्र, हे १, २३१) ।

साव पुं [शाव] बालक, बच्चा (समु १५६, प्राकृ ८५) ।

साव पुं [स्वाप] स्वपन, शयन, सोना (विसे १७५५) ।

साव (अप) देखो सञ्च = सर्व (हे ४, ४२०) ।

सावइज्ज देखो सावएज्ज (कप्प) ।

सावइत्तु वि [श्रावयित्] सुनानेवाला (सुस २, २, ७६) ।

सावएज्ज न [स्वापतेय] धन, द्रव्य (कप्प) ।

सावक न [सापत्त्य] सपत्नीपन, सौतिनपन (कुप्र २५५) ।

सावक वि [सापत्न] सौतेली माँ की संतान (धर्मवि ४७) ।

सावक्का स्त्री [सपत्नी] सौतेली माँ, विमाता, गुजराती मे 'सावकी', 'सावक्का सुयजणणी पासत्था गहिय वायए लेह' (धर्मवि ४७) ।

सावग पुंन [श्रावक] १ जैन उपासक, अहं-भक्त गृहस्थ (ठा १०—पत्र ४६६, उवा, णाया १, २—पत्र ६०) । २ ब्राह्मण । ३ बुद्ध श्रावक (णाया १, १५—पत्र १६३, अणु २४), 'तयो सागरचदो कमलामेला य' गहियाणुण्वयाणि सावगाणि सवुत्ताणि' (आक ३१) । ४ वि सुननेवाला । ५ सुनानेवाला (हे १, १७७) । 'धम्म पुं [धर्म] प्राणातिपात-विरमण आदि बारह व्रत, जैन गृहस्थ का धर्म (णाया १, १४—पत्र ६१) ।

सावज्ज वि [सावद्य] पाप युक्त, पापवाला (अग, उव, श्रौघ ७६३, विसे ३४६६, सुर ४, ८२) ।

सावण न [श्रावण] १ सुनाना (उप ७२८ टी, सुपा २८८) । २ पु मास विशेष, सावन का महौना (पउम ६७, ७, कप्प, हे ४, ३५७, ३६६) । ३ वि श्रवणेन्द्रिय-सम्बन्धी, श्रावण-प्रत्यक्ष का विषय, जो कान से सुना जाय वह (धर्मस १२८१) ।

सावणा स्त्री [श्रावणा] सुनाना (कुप्र ६०) । सावणी स्त्री [स्वापनी] देखो सायणी (ठा १०—पत्र ५१६) ।

सावतेज्ज } देखो सावएज्ज (णाया १, १—
सावतेय } पत्र ३६, श्रौप, सुस २, १, ३६) ।

सावत्त देखो सावक (दे १, २५, भवि, सिरि ४६, कप्प) ।

सावत्थिगा स्त्री [श्रावस्तिगा] एक जैन मुनि-शावा (कप्प—पु ८१) ।

सावत्थी स्त्री [श्रावस्ती] कुणाल देश की प्राचीन राजधानी (णाया १, ८—पत्र १४०, उवा) ।

सावन्न (अप) देखो सामन्न = सामान्य (भवि) ।

सावय देखो सावग (अग, उवा, महा), 'एय कहेहि सुदर सवित्थर सच्चसावयो वुहय' (पउम ५३, २६) ।

सावय पु [श्रापद] शिकारी पशु, हिंसक जानवर (णाया १, १—पत्र ६५, गज्ज, प्रासू १५४, महा, सण) ।

सावय पुं [दे] १ शरभ, श्रापद पशु-विशेष (दे ८, २३) । २ बालो की जड़ में होनेवाला एक तरह का क्षुद्र कीट (जी १६) ।

सावय पु [शावक] बालक, बच्चा, शिशु (नाट) ।

सावरी स्त्री [शावरी] विद्या-विशेष (सुस २, २, २७) ।

सावसेस वि [सावसेप] अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ, 'जावाऊ सावसेस' (उव) ।

सावहाण वि [सावधान] अवधान-युक्त, सचेत (नाट, रभा) ।

साविथ वि [शापित] १ जिसको शाप दिया गया हो वह । २ जिसको सौगव दिया गया हो वह (णाया १, १—पत्र २६, अग १५—पत्र ६८२, स १२६) ।

साविथ वि [श्रावित] सुनाया हुआ (अग १५—पत्र ६८२, णाया १, १—पत्र २६, पउम १०२, १५, ६६, सार्ध १८) ।

साविआ स्त्री [श्राविका] जैन गृहस्थ-धर्म पालनेवाली स्त्री (अग, णाया १, १६—पत्र २०४, कप्प, महा) ।

साविकख वि [सापेक्ष] अपेक्षा-युक्त, अपेक्षा-वाला (आ ६, सवोष ४१) ।

साविगा देखो साविआ (ठा १—न ४६६, णाया १, २—पत्र ६०, महा) ।

साविट्ठी स्त्री [श्राविष्ठी] १ श्रावण मास में पूर्णिमा । २ श्रावण की प्रभावस (सुस १, ६, इक) ।

साविन्ती स्त्री [सावित्री] ब्रह्मा की पत्नी (उप ५६७ टी, कुप्र ४०३) ।

साविह पु [श्राविध] श्रापद पशु विशेष, साही (दे २, ५०, ८, १५) ।

सावेक्ख देखो साविकख (पउम १००, ११, उप ८७०) ।

सास सक [शास] १ सजा करना । २ सोल देना । ३ ठुठुम करना । भूका सासिण (कुप्र १४) । कर्म सासिज्ज, सीसइ (नाट-मृच्छ २००, कुप्र ३६६) । वक्र सास, सासत (उत्त १, ३७, श्रौप, वि ३६७) । ३. सासणीअ (नाट-विक्र १०४) । कव. सासिज्जत (उप १४६ टी) ।

सास सक [कथय] कहना । शब्द (पड) । कर्म सासइ (प्राकृ ७७) ।

सास पु [श्रास] १ सांस (गा १४१, १५७) । २ रोग-विशेष, श्वास-रोग (णाया १, १३—पत्र १८२, उवा, विपा १, १) । 'हृषा अ [धरा] जीवन धारण करनेवाली (रु) वृ० हारि० पत्र ६४, २) ।

सास पुन [श्रास्य, सस्य] १ क्षेत्रगत बाल (परह १, ४—पत्र ७२, स १३१), 'सासा अकिट्टुजाया' (पउम ३३, १४) । २ बुद्ध आदि का फल । ३ वि, वय योग्य (हे १, ४३) । देखो सस्स = शस्य ।

सासण पुन [सस्यक] रत्न की एक जाति, 'पुलगवइरिदनीलसासणककियणलोहियस' (कप्प) ।

सासण पु [सासक] वृष-विशेष, वीरक नाम का पेड़ (णाया १, १—पत्र २४) ।

सासण न [शासन] १ ब्राह्मणों का ईश जैन अग-ग्रन्थ, आगम, विद्वान्, शास्त्र, 'अपु सासणमेव पक्रमे' (सुस १, २, ११ अणु ३८, मम्म १, विसे ८६६) । २ प्रतिपत्ति (एदि, उप पु ३७४) । ३ शिवा, कीर्त

सीस सक [शिप्] १ वष करना, हिंसा करना । २ शेष करना, बाकी रखना । ३ विशेष करना । सीसइ (हे ४, २३६, षड्) ।

सीस सक [कथय्] कहना । सीसइ (हे ४, २, भवि) ।

सीस न [सीस] धातु विशेष, सीसा (दे २, २७) ।

सीस देखो सिस्स = शिष्य (हे १, ४३, कुमा, द ४७, एया १, ५—पत्र १०३) ।

सीस पुन [शीर्ष] १ मस्तक, माथा (स्वप्न ६०, प्रासु ३) । २ स्तवक, गुच्छा (आवा २, १, ८, ६) । ३ छन्द-विशेष (पिंग) ।

अन [क] शिरन्नाण (वेणी ११०) ।

वडी छी [घटी] सिर की हड्डी (तदु ३८) । पकपिअ न [प्रकम्पित] सख्या-विशेष, महालता को चौरासी लाख से गुनने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक) ।

पहेलिअ छीन [प्रहेलिक] सख्या-विशेष, शीर्ष-प्रहेलिकाग को चौरासी लाख से गुनने पर जो सख्या लब्ध हो वह (इक) ।

आ (ठा २, ४—पत्र ८६, सम ६०, अणु ६६) ।

पहेलियग न [प्रहेलिनाङ्ग] सख्या-विशेष, चूलिका को सोरासी लाख से गुनने पर जो सख्या लब्ध हो वह (ठा २, ४—पत्र ८६, अणु ६६) ।

पूरग, पूरय पु [पूरक] मस्तक का प्राभरण (राज, तदु ४१) ।

रूपक, रूअ (अप) । पुन [रूपक] छन्द विशेष (पिंग) ।

वेष्ट पु [वेष्ट] गोले चमड़े आदि से मस्तक को लपेटना (सम ५०) ।

सीस देखो सास = शास् ।

सीसक न [डे शीर्षक] शिरन्नाण, मस्तक का कनच (दे ८, ३४, से १५, ३०) ।

सीसम पुन [दे] सीसम का गाछ, शिश्या (अप १०३१ टी) ।

सीसय वि [डे] प्रवर, श्रेष्ठ (दे ८, ३४) ।

सीसय न [सीसक] देखो सीस = सीस (महा) ।

सीसया छी [शिशापा] सीसम का गाछ (पण १—पत्र ३१) ।

सीह देवो मिन्ध = शीत्र (राज) ।

सीह पु [सिंह] १ श्वापद जन्तु-विशेष, केसरी, मृग-राज (पण १, १—पत्र ७, प्रासु ५१, १७१) । २ वृक्ष-विशेष, सहिजने का पेड़ (हे १, १४४, प्राप्र) । ३ राशि-विशेष, मेष से पाँचवीं राशि (विचार १०६) । ४ एक अनुत्तर देवलोक गामी जैन मुनि (अनु २) ।

५ एक जैन मुनि, जो आर्य-धर्म के शिष्य थे (कल्प) । ६ भगवान् महावीर का शिष्य एक मुनि (भग १५—पत्र ६८५) । ७ एक विद्याधर सामन्त राजा (पउम ८, १३२) ।

८ एक श्रेष्ठि-पुत्र (सुपा ५०६) । ९ एक देव-विमान (सन ३३, देवेन्द्र १४०) । १० एक जैन आचार्य, जो रेवतीनक्षत्र नामक आचार्य के शिष्य थे (एदि ५१) । ११ छन्द-विशेष (पिंग) उर न [पुर] नगर-विशेष (सण) ।

कत पुन [कान्त] एक देव-विमान (सम ३३) । कडि पु [कटि] रावण का एक योद्धा (पउम ५६, २७) ।

कण पु [कर्ण] एक अन्तर्द्वीप (इक) ।

कण्णी छी [कर्णी] कन्द-विशेष (उत्त ३६, १००) ।

केसर पु [केसर] १ आस्तरण-विशेष, जटिल कम्बल (एया १ १—पत्र १३) । २ मोदक-विशेष (अत ६, पिड ४८२) ।

गइ पु [गति] अमितगति तथा अमितवाहन नामक इन्द्र का एक-एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८) ।

गिरि पु [गिरि] एक प्रसिद्ध जैन महर्षि (उव, अप १४२ टी, पिड) ।

गुहा छी [गुहा] एक चौर-पल्ली (एया १, १८—पत्र २३६) ।

चूड पु [चूड] विद्याधर वंश का एक राजा (पउम ५, ४६) ।

जस पु [यशस] भरत चक्रवर्ती का एक पौत्र (पउम ५, ३) ।

गाय पु [नाद] सिंहगर्जन, सिंह की गर्जना के तुल्य आवाज (भग) ।

णिक्कीलिय न [निक्कीलित] १ सिंह की गति । २ तप-विशेष (अत २८) ।

णिसाइ देखो निसाइ (राज) ।

दुवार न [द्वार] राज-द्वार, राज-प्रासाद का मुख्य दरवाजा (कुप्र ११६) ।

द्वय पु [ध्वज] १ विद्याधरवंश का एक राजा (पउम ५, ४३) । २ हरिपण चक्रवर्ती के पिता का नाम (पउम ८, १४४) ।

नाय देखो गाय (पण १, ३—पत्र ४५) ।

निक्कीलिय, निक्कीलिय देखो णिक्कीलिय (पव २७१, अत २८, एया १, ८—पत्र १२२) ।

णिसाइ वि [निषादिन्] सिंह की तरह बैठनेवाला (सुज्ज १०, ८ टी) ।

णिसिज्जा छी [निपद्या] भरत चक्रवर्ती द्वारा अग्रापद पर्वत पर बनवाया हुआ जैन मन्दिर (ती ११) ।

पुच्छ न [पुच्छ] पृष्ठ वस्त्र, पीठ की चमड़ी (सुप्रनि ७७) ।

पुच्छण न [पुच्छण] पुरुष चिह्न का तोड़ना, लिंग-तोड़ना (पण २, ५—पत्र १५१) ।

पुच्छिय वि [पुच्छित] १ जिसका पुरुष-चिह्न तोड़ दिया गया हो वह । २ जिपको कृकटिका से लेकर पुत-प्रदेश—नितम्ब तक की चमड़ी उखाड़ कर सिंह के पुच्छ के तुल्य की जाय वह (श्रीप) ।

पुरा, पुरी छी [पुरी] नगरी-विशेष, विजय-क्षेत्र की एक राजधानी (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) ।

मुह पु [मुख] १ अन्तर्द्वीप-विशेष । २ उसमें रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २—पत्र २२६, इक) ।

रव पु [रव] सिंह गर्जना, सिंह-नाद, सिंह की तरह आवाज (पउम ४४, ३५) ।

रह पु [रथ] गन्धार देश के पुत्र-वर्धन नगर का एक राजा (महा) ।

वाह पु [वाह] विद्याधर-वंश का एक राजा (पउम ५, ४३) ।

वाहन पु [वाहन] राक्षस-वंश का एक राजा (पउम ५, २६३) ।

वाहणा छी [वाहना] अम्बिका देवी (राज) ।

विक्रमगइ पु [विक्रमगति] अमितगति तथा अमितवाहन नामक इन्द्र का एक-एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६८, इक) ।

वीअ पुंन [वीत] एक देव-विमान (सम ३३) ।

सेण पु [सेन] चौदहवें जिनदेव का पिता, एक राजा (सम १५१) ।

२ भगवान् अजितनाथ का एक गणधर (सम १५२) । ३ राजा श्रेणिक का एक पुत्र (अनु २) । ४ राजा महासेन का एक पुत्र (विपा १, ६—पत्र ८६) । ५ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (राज) ।

सोआ छी [स्रता] एक नदी (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

वलोइअ न [वलोकिन] सिंहावलोकन, सिंह की तरह चलते हुए पीछे की तरफ

साहजत देखो साहण = स + हन् ।
 साहम्म न [साधर्म्य] १ समान धर्म, तुल्य धर्म (सम्म १५३, पिठ १३६) । २ साहरय, समानता (विसे २५८६, श्लो ४०४, पचा १४, ३५) ।
 साहम्मि वि [साधर्मिन्, साधर्मिन्] समान धर्मवाला, एक-धर्मी (पिठ १३६, १४६, १४७) स्त्री ०णी (आचा २, १, १, १२, महा) ।
 साहम्मिअ } वि [साधर्मिक] ऊपर देखो
 साहम्मिग } (श्लो १५, ७७६, श्लोप, उक्त २६, १, कस, सुपा ११२, पचा १६, २२) ।
 साहय देखो साहग = साधक (उप ३६०, स ४५, काल) ।
 साहय देखो साहग = शासक, कथक (सम्म १४३) ।
 साहय वि [सह्यत] ससिप्त, समेटा हुआ (पएह १, ४—पत्र ७८, श्लोप, तदु २०) ।
 साहर सक [स + वृ] सवरण करना । साहरइ (हे ४, ८२) ।
 साहर सक [स + हृ] १ सकोच करना, सक्षेप करना, सकेलना, समेटना । २ स्थानान्तर में ले जाना । ३ प्रवेश कराना । ४ छिपाना । ५ व्यापार-रहित करना । साहरइ, साहरे, साहरति (भग ५, ४—पत्र २१८, कप्प, उव, सुप्र १, ८, १७, पि ७६) । साहरिउज (भग ५, ४) । भवि, साहरिउजस्सामि (कप्प) । कवक साहरिउज्जमाण (कप्प, श्लोप) । संक साहरिउत्ता (कप्प) । हेक, साहरिउत्ताए (भग ५, ४—पत्र २१८) ।
 साहरण न [सहरण] एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, स्थानान्तर-नयन (पिठ ६०६, ६०७) ।
 साहरय वि [दे] गत-मोह, मोह-रहित (वि ८, २६) ।
 साहरिअ वि [सह्यत] १ स्थानान्तर में नीत (सम ८६, कप्प) । २ अन्वय सिप्त (पिठ ५२०) । ३ संज्ञान किया हुआ, संकोचित (श्लोप) ।
 साहरिअ वि [सद्युत] सवरण-भुक्त (कुमा, पाभ) ।

साहल न [साफल्य] सफलता (श्लो ७३) ।
 साहव देखो साहु = साधु, 'अह येच्छइ साहवें तहि वालि' (पउम ६, ६१, ७७, ६४) ।
 साहव न [साधव] साधुता, साधुपन (पउम १, ६०) ।
 साहव्व न [स्वाभाव्य] स्वभावता, स्वभाव-पन (धर्मस ६६) ।
 साहस न [साहस] १ विना विचार किया जाता काम (उव, महा) । २ पु एक विद्या-धर नरेन्द्र, साहस गति (पउम ४७, ४७) । ३ गइ पु [गहि] वही अर्थ (पउम ४७, ४५, महा) ।
 साहस देखो साहस्स = साहज (राज) ।
 साहसि वि [साहसिन्] साहस कर्म करने-वाला; साहसिक, 'ते धीरा साहसिणो उत्तम-सत्ता' (उप ७२८ टी, किरात १४) ।
 साहसिअ वि [साहसिक] ऊपर देखो (श्लोप, सुप्र २, २, ६२, चार ३७, कुप्र ४१६) ।
 साहस्स वि [साहस्स] १ जिसका मूल्य हजार (शुदा, रुपया आदि) हो वह वस्तु (वसनि ३, १५, उव, महा) । २ हजार का परिमाणवाला, 'जोयणस्यसाहस्सो वित्थिएणो मेरुनाभोभो' (जीवस १८५) । ३ न. हजार (जीवस १८५) । ४ मल्ल पु [मल्ल] व्यक्ति-वाचक नाम (उव) ।
 साहस्सिअ वि [साहस्सिक] १ हजार का परिमाणवाला (खाया १, १—पत्र ३७, कप्प) । २ हजार आदमी के साथ लडनेवाला मल्ल (राज) ।
 साहस्सी स्त्री [साहस्सी] हजार, वस सौ. 'गिहत्थाण अणेगायो साहस्सीभो समागया' (उत्ता २३, १६, सम २६, उवा, श्लोप, उक्त २२, २३, हे ३, १२३) ।
 साहा स्त्री [ऋघा] प्रशसा (सम ५१) ।
 साहा अ [स्वाहा] देवता के उद्देश्य से द्रव्य-व्याग का सूचक मन्त्र्य, आहुति-सूचक शब्द (ठा ८—पत्र ४२७, श्लोभा ५७) ।
 साहा स्त्री [शाखा] १ एक ही आचाय की सतति में उत्पन्न अशुक्त मुनि की सन्तान-परम्परा, भवान्तर सतति (कप्प) । २ वृक्ष

की डाल, डाली (आचा २, १, ७, ६, इ, श्लोप, प्रासू १०२) । ३ वेद का एक टुकड़ा (सुख ४, ६) । ४ भग पु [मल्ल] शाखा का टुकड़ा, पल्लव (आचा २, १, ७, ६) । ५ मय, मिअ, मिया पु [मय] वानर, बन्दर (पाभ, ती २, सुपा २६२, ६१८) । ६ र, ल वि [वन्] १ शाखावाला, शाखा-युक्त (धम्म १२ टी, सुपा ४७४) । २ पु वृक्ष, पेठ (सुपा ६३८) ।
 साहाणुसाहि पु [दे] शक देश का सम्राट्, वादशाह, 'पत्तो सगकूल नाम कूल, तव जे सामता ते साहियो भएणति जो सामक हिवई सयलनरिदवद्वडामणो सो साहाणुसाही भएणइ' (काल) ।
 साहार सक [स + धारय] अश्ली तद् धारण करना । साहारइ (भवि) ।
 साहार पु [सहकार] ग्राम का गाव, 'होइ किल साहारो साहारे अणयम्मि वडु ते' (वजा १३०, सुपा ६३८) ।
 साहार पु [दे साधुहार] साहकार, गृह जन (धम्म १२ टी) ।
 साहार पु [सदाधार, सहकार] अन्ना प्राधार, सहाय, अवलम्बन, सहायता, मद, उपकार, 'परचित्तरेजणेण न वडयणेण साहारो' (उव, पुष्प २२५), 'युजतो प्राहो युणोवधारसरीरसाहार' (श्लो ५३८, व ४२५, वजा १२०, सण) ।
 साहार वि [साह-हार] ग्राम के गाव न उत्पन्न, आम्र-वृक्ष-सम्बन्धी (कप्प) ।
 साहार पुन [साधारण] १ वनस्पति साधारण विशेष, जहाँ एक शरीर में प्रत्येक जीव हो वह वनस्पति, कन्द आदि । २ कर्म विशेष, जिसके उदय से साधारण-वनस्पति जन्म होय वह कर्म (कम्म २, २८, ५२ १, १—पत्र ८, कम्म १, २७, जा ६, पएण १—पत्र ८२) । ३ कारण (आहु १) । ४ पु. साधारण वनस्पति-काम का जीव (पएण १—पत्र ८२) । ५ वि सामान्य । ६ समान, तुल्य (पएह १—पत्र ८३) । पुन उपकार, सहायता, मदक साधारण जे केइ गिलाणम्मि उट्टिए । पुन उ कुं किच' (सम ५१) । 'सरीरताम न [ग]

सुअरिअ न [सुचरित] सदाचार, सद्दतन (अभि २५३)।

सुअलकिय वि [स्वलकृत] अच्छी तरह विभूषित (णाय १, १—पत्र १६)।

सुआ लो [सुता] पुत्री, लडकी (गा ६०२, ८६३ (कुमा)।

सुआ (शौ) अक [शी] शयन करना, सोना। सुआदि (प्राक् ६४)।

सुआ लो [सूच्] यज्ञ का उपकरण-विशेष, यो आदि डालने की कडछी या नलछी (उत्त १२, ४३, ४४)।

सुआइक्ख वि [स्वाख्येय] सुख से—अनायास से कहने योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६)।

सुआउत्त वि [स्वायुक्त] अच्छी तरह ब्याल रखनेवाला (उव)।

सुइ पु [शुचि] १ पवित्रता, निर्मलता, 'जिणघम्मठिया मुणियो य वच्छ दीसति सुइरहिया' (सुपा १६६)। २ वि श्वेत, सफेद (कुमा)। ३ पवित्र, निर्मल (श्रीप, कप्प, आ १२, महा, कुमा)। ४ लो शक को एक अग्र-महिषी (इक)।

सुइ ली [श्रुति] १ श्रवण, आकणंन, सुनना (उत्त ३, १, वसु, विसे १२५)। २ कर्ण, कान (गा ६४१, सुर ११, १७४, सम्मत्त ८८, सुपा ४६, २४७)। ३ वेद शास्त्र (प्राक्, अचु ४, कुमा)। ४ शास्त्र, सिद्धान्त (सया ७, प्रासू ४६)।

सुइ ली [स्मृति] स्मरण (विपा १, २—पत्र ३४)।

सुइअ देखो सूइअ = सूचिक (दे १, ६६)।

सुइण देखो सुमिण (सुर ६, ८२, उप ७२८ टी, हे ८, ४०४)।

सुइदि ली [सुइति] १ पुण्य। २ मङ्गल, कल्याण। ३ सत्-कर्म (प्राक्, पि २०४)।

सुइनाणिया लो [दे सूतिहारिणी] सूति-कर्म करनेवाली ली (सुपा ५७८)।

सुइर न [सुचिर] अत्यन्त दीर्घ काल, बहु बाल (गा १३७, ४६०, सुपा १, १२७, महा)।

सुइल देखो सुक = शुक्ल (हे २, १०६)।

सुइन्व वि [श्वस्तन] आगामी कल से सबन्ध

रखनेवाला, कल होनेवाला (पिड २४१)।

सुई ली [दे] बुद्धि, मति (दे ८, ३६)।

सुई ली [शुकी] शुक पक्षी की मादा, मैना (सुपा ३६०)।

सुउज्जुयार वि [सुच्छजुकार] अतिशय समय में रहनेवाला, सुसयमी (सूत्र १, १३, ७)।

सुउज्जुयार वि [सुच्छजुचार] अतिशय सरल आचरणवाला (सूत्र १, १३, ७)।

सुउमार } देखो सुकुमाल (स्वप्न ६०,
सुउमाल } कुमा)।

सुउरिस पु [सुपुरुष] सज्जन, भला आदमी (प्राक्, हे १, ८, कुमा)।

सुए अ [श्वस्] आगामी कल (स ३६, वै ४१)।

सुक न [शुल्क] १ मूल्य (णाय १, ८—पत्र १३१, विपा १, ६—पत्र ६३)। २ चुगी, विक्रीय वस्तु पर लगता राज कर (धम्म १२ टी, सुपा ४४७)। ३ वर-पक्ष के पास से कन्या पक्षवालों को लेने योग्य धन (विपा १, ९—पत्र ६४)। °ठाण न [स्थान] चुगी-घर (धम्म १२ टी)। °पालय वि [पालक] चुगी पर नियुक्त राज-पुरुष (सुपा ४४७)। देखो सुक = शुल्क।

सुकअ } पुन [दे] किशार, धान्य आदि का
सुक्ल } अग्र भाग (दे ८, ३८)।

सुकलि पु न [दे] तृण-विशेष (परण १—पत्र ३३)।

सुकविय वि [शुक्ति] जिसकी चुगी दो गई हो वह (सुपा ४४७)।

सुकाणिअ पु [दे] नाव का डह खेनेवाला व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (सिरि ३८५)।

सुकार पु [स्वकार] अव्यक्त शब्द विशेष (सुर २, ८, गउड)।

सुकिअ वि [शौक्तिरु] शुल्क लेनेवाला, चुगी पर नियुक्त पुरुष (उप पृ १२०)।

सुख देखो सुक्ख = शुष्क (सक्ति १६)।

सुग देखो सुक = शुल्क (हे २, ११, कुमा)।

सुंगायण न [शौङ्गायन] गोत्र-विशेष (सुज्ज १०, १६)।

सुय सक [दे] सूँघना। वक्क. सुंघंत (सिरि ६२२)।

सुधिअ वि [दे] घ्रात, सूँघा हुआ (दे ८, ३७)।

सुवल न [दे] काला नमक, 'सुठिसुचलाईय' (कुप्र ४१४)।

सुठ पुन [शुण्ठ] पर्व वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३३)।

सुंठय पुन [शुण्ठरु] भाजन-विशेष, 'मीरासु य सुंठएसु य कहुमु य पयडएसु य पयति' (सूत्रनि ७६)।

सुंठी ली [शुण्ठी] सूँठ या सोठ (पभा १५; कुप्र ४१४, पचा ५, ३०)।

सुंड वि [शौण्ड] १ मत्त, मद्यप, दारु पीनेवाला (हे १, १६०, प्राक् १०, सक्ति ६)। २ दक्ष, कुशल (कुमा)। देखो सौंड।

सुडा देखो सोडा (आचा २, १, ३, २, आवम)।

सुडिअ पु [शौण्डिक] कलवार, दारु वेचनेवाला (प्राक् १०, सक्ति ६)।

सुडिआ ली [शौण्डिका] मदिरा-पान में आसक्ति (दस ५, २, ३८)।

सुडिक देखो सुडिअ (दे ६, ७५)।

सुडिकिणी ली [सौण्डिकी] कलवार की ली (प्रयो १०६)।

सुडीर देखो सौंडीर (भवि)।

सुद पु [सुन्द] राजा रावण का एक भागिनेय, खरद्वेषण का पुत्र (पउम ४३, १८)।

सुदर वि [सुन्दर] १ मनोहर, चारु, शोभन (परह १, ४, सुपा १२८, २६५, कप्प, काप्र ४०८)। २ पु एक सेठ का नाम (सुपा ६४३)। ३ तेरहवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१)। ४ न तप-विशेष, तैला, तीन दिनों का लगातार उपवास (सबोध ५८)। °वाहु पु [वाहु] सातवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५१)।

सुदरिअ देखो सुदेर (हे २, १०७)।

सुदरिम पुत्री देखो सुदेर (कुप्र २२१)।

सुदरी ली [सुदरी] १ उत्तम ली (प्रासू ५७, वि १८)। २ भगवान् ऋषभदेव की एक पुत्री (ठा ५, २—पत्र ३२६, सम ६०, पउम

सिअंग पुं [दे] वरुण देवता (दे ८, ३१) ।
 सिअवर पुं [अंताम्बर] जैनो का एक सम्प्र-
 दायः श्वेताम्बर जैन (सुपा ६५८) ।
 सिअल्लि पुं [दे] वृक्ष-विशेष (स २५६) ।
 देखो सीअल्लि ।
 सिआ देखो सिवा = शिवा (से १३, ६५) ।
 सिआ अ [स्यात्] इन अर्थों का सूचक
 अव्यय—१ प्रशसा, श्लाघा । २ अस्तित्व,
 सत्ता । ३ सशय, सदेह । ४ प्रश्न । ५
 अवधारण, निश्चय । ६ विवाद । ७ विचारणा
 (हे २, १०७) । ८ अनेकान्त, अनिश्चय,
 कदाचित् (सूय १, १०, २३, बृह १, परण
 ५—पत्र २३७) । ९ वाइ पु [वादिन्]
 जिनदेव, अहंन् देव (कुमा) । १० वाय पुं
 [वाद्] अनेकान्त दर्शन, जैन दर्शन (हे २,
 १०७, षड, षड्) ।
 सिआ स्त्री [सिता] १ लेश्या-विशेष, शुक्ल-
 लेश्या (पव १५२) । २ द्राक्षा आदि का सग्रह
 (राज) ।
 सिआल पु [शृगाल, सृगाल] १ पशु-विशेष,
 सियार, मोदक (साया १, १—पत्र ६५) ।
 २ दैत्य-विशेष । ३ वायुदेव । ४ निष्ठुर ।
 ५ खल, दुर्जन (हे १, १२८, प्राप्र) ।
 सिअली स्त्री [दे] डमर, देश का भीतरी या
 बाहरी उपद्रव (दे ८, ३२) ।
 सिआली स्त्री [शृगाली] मादा सियार (नाट,
 पि ५०) ।
 सिआलीस स्त्री [षट्चत्वारिंशत्] छेमा-
 लीस, चालीस और छ (विते ३४६ टी) ।
 सिआसिअ पु [सितासित] १ बलभद्र,
 बलराम । २ वि श्वेत और कृष्ण (प्राप्र) ।
 सिइ पु [शिति] १ हरा वर्ण । २ वि हरा
 वर्णवाला । ३ पावरण पु [पावरण] बल-
 राम, बलभद्र (कुमा) ।
 सिइ स्त्री [दे शिति] सीढी, नि श्रेणि (पिड
 ४७३, वव १०) ।
 सिड (अप) देखो समं (भवि) ।
 सिडठा स्त्री [दे असिकुण्ठा] साधारण
 वनस्पति-विशेष (परण १—पत्र ३५) ।
 सिएअर वि [सितेतर] कृष्ण, काला
 (नाम) ।

सिकला देखो सकला (अच्छु ४०) ।
 सिखल न [दे] नूपुर (दे ८, १०, कुप्र ६८) ।
 सिखला देखो सकला (से १, १४, प्राप,
 नाट—मृच्छ ८६) ।
 सिग न [शृङ्ग] १ लगातार छब्बीस दिनों
 के उपवास (सर्वोष ५८) । २—देखो सग =
 शृङ्ग (उवा, पाप्र, राय ४६, कप्प, उप
 ५६७ टी, सुपा ४३२, विरू ८६, गउड,
 हे १, १३०) । ३ गण्डय न [नादित]
 प्रधान काज (पंचमा ३) । ४ पाय न [पात्र]
 सींग का बना हुआ पात्र (आचा २, ६, १,
 ५) । ५ माल पु [माल] वृक्ष-विशेष (राज) ।
 ६ वदण न [वन्दन्] ललाट से नमन (बृह ३) ।
 ७ वेर न [वेर] १ आद्रक, आदी । २ शुष्ठी,
 सोठ (उत्त ३६, ६७, दस ५, १, ७०, भास
 ८ टी, परण १—पत्र ३५) ।
 सिग वि [दे] कृश, दुर्बल (दे ८, २८) ।
 सिगय वि [दे] तरुण, जवान (दे ८ ३१) ।
 सिगरीडी देखो सिगिरीडी (राज) ।
 सिगा स्त्री [दे] फली, फलियाँ (भास ८ टी) ।
 सिगार पु [शृङ्गार] १ नाट्यशास्त्र-प्रसिद्ध
 रस-विशेष, 'सिगारो याम रसो रहसजोगा-
 भिलाससजणयो' (अणु) । २ वेष, भूषण
 आदि की सजावट, भूषण आदि की शोभा
 (श्रीप, विपा १, २) । ३ लवङ्ग, लौंग । ४
 सिन्दूर । ५ चूर्ण, चूना । ६ काला अगस ।
 ७ आद्रक, आदी । ८ हाथी का भूषण । ९
 अलकार, भूषण (हे १, १२८, प्राप्र) । १०
 वि अविशय शोभावाला, 'सए ण समणस्स
 भगवओ महावीरस्स विपट्ठोइस्स सरीरय
 ओराज सिगार कल्लाए सिव घन्न मगल्ल
 अणालकिअविमूसिअ चिट्ठइ' (भग) ।
 सिगार सक [शृङ्गारय] सिगार करना,
 सजावट करना । सिगारइ (भवि) ।
 सिगारि वि [शृङ्गारिन्] सिगार करनेवाला,
 शोभा करनेवाला (सिरि ८४४) ।
 सिगारिअ वि [शृङ्गारित] सिगारा हुआ,
 सजाया हुआ (सिरि १५८) ।
 सिगारिअ वि [शृङ्गारिक] शृङ्गार-युक्त
 (उवा) ।

सिगि वि [शृङ्गिन्] १ सोमवाला (सुव ८,
 १३, दे ७, १६) । २ पु मेघ, षड । ३
 पर्वत । ४ भारतवर्ष का एक सोमान्वत ।
 ५ मुनि-विशेष । ६ वृक्ष (अणु १४२) ।
 सिगिणी स्त्री [दे] गौ, बैरा (दे ७, ३१) ।
 सिगिया स्त्री [शृङ्गिका] पानी छिन्नक ना
 पात्र विशेष, पिचकारी (सुपा ३२८) ।
 सिगिरीडी स्त्री [शृङ्गिरीटी] चतुर्दिग
 जन्तु की एक जाति (उत्त ३६, १५८) ।
 सिगी स्त्री [शृङ्गी] देखो सिगिया (सुपा
 ३२८) ।
 सिगोरिवम्म न [दे] बल्लोक (दे ८, ३३) ।
 सिघ सक [शिडध्] सूँघना । सिघइ (कु
 ८१) । सक्क सिघिउ (धर्मवि ६४) । इह
 सिघेउ (धर्मवि ६४) ।
 सिघ देखो सिह (हे १, २६, विपा १, ५—
 पत्र ५५, षड्) ।
 सिघल देखो सिहल (सुर १३, २६, सुग
 १५, पि २६७) ।
 सिघाडग } पुन [शृङ्गाटक] १ सिघाड,
 सिघाडय } पानी-फल (परण १—पत्र १६
 आचा २, १, ८, ५) । २ त्रिकोण मार्ग
 (परह १, ३—पत्र ५४, श्रीप, साया १,
 १ टी—पत्र ३, कप्प) । ३ पु राहु (सुज
 २०) ।
 सिघाण पुन [शिङ्गाण] १ नाटिका-मन,
 श्लेषमा (ठा ५, ३—पत्र ३४२, सप १०,
 परह २, ५—पत्र १४८, श्रीप, कप्प, सः,
 वस ८, १८, पि २६७) । २ पु. ज्ञाना
 पुद्गल-विशेष (सुज २०) ।
 सिघासण देखो सिहासण (स ११७) ।
 सिघुअ पु [दे] राहु (दे ८, ३१) ।
 सिच सक [सिच्] सीचना, दिवचना ।
 सिचइ (हे ४, ६६, महा) । भूका. सिचिअ
 (कुमा) । भवि निचिस्सं (पि ५२६) । इ.
 सिचेयन् (सुर ७, २३५) । इह
 सिचत्त, सिचमाण (पि ५४२, उप २१
 टी, स ३४६) ।
 सिचण न [सेचन] दिवकान (सुप १, ५,
 १, २१, मोह ३१) ।
 सिचाण पु [दे] पत्ति विशेष, रत्न नाम,
 बाज, बुजरानी से 'विचाणो' (सण) ।

सुक्ताणय न [दे] जहाज के आगे का ऊँचा काष्ठ, गुजराती में 'सुकान' (सिरि ४२४)।

सुक्ताभ न [शुक्ताभ] १ एक लोकान्तिक देव-विमान (पव ३६७)। २ वैताव्य पर्वत की दक्षिण श्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)।

सुक्रिय देखो सुक्रय (भवि)।

सुक्रिय न्को सुक्कीअ (राज)।

सुकिल { देखो सुक्क = शुक्ल (भग, सुकिलय } श्रौप, हे २, १०६, पच ५, सुकिल्ल { ३३, अणु १०६), 'मुत्तु सुकिलवत्थ' (गच्छ २, ४६, कप्प, सम ४१ धर्मस ४५४)। स्त्री. 'एगो सुकिलियाणं एगो सबलाण वगो कम्मो' (आक ७)।

सुक्रीअ वि [सुक्रीत] अच्छी तरह खरीदा हुआ, 'सुक्रीभ वा सुविकीअ (दस ७, ४५)।

सुक्ख देखो सुक्क = शुष्क । वक्क सुक्खत (गा ४१४, वजा १४६)।

सुक्ख देखो सुक्क = शुष्क (हे २, ५, गा २६३, मा ३१, उप ३२० टी)।

सुक्ख न [सौख्य] सुख (कप्प, कुमा, साधं ५१, प्रासू २८, १४५)।

सुक्खय देखो सुक्कव । कर्म सुक्खवीअत्ति (वि ३५६, ५४३)।

सुक्खिय वि [स्वाख्यात] अच्छी तरह कहा हुआ, प्रतिज्ञात, 'तत्रो सुद्वयराजपणे ज ते सुक्खियमात्ति बुद्धिलेण अदलवत्त, तन्निमित्त-भेसो पेसिमो चालोससाहस्सो हारो ति वोत्तु समपिउ च हारकरडिय गमो दासचेडो' (महा)।

सुक्खय (पै) देखो सण्ह = सुक्क, 'सुक्खयवत्सो' (प्राक १२४)।

सुग देखो सुअ = शुक् (उप ६७२, स ८६, उर ५, ७, कुप्र ४३८, कुमा)।

सुगइ स्त्री [सुगति] १ अच्छी गति (ठा ३, ३—पत्र १४६)। २ सन्मार्ग, अच्छा मार्ग (सूप्रनि १०५)। ३ वि. अच्छी गति को प्राप्त (भावम)।

सुगव देखो सुअध (कप्प, कुमा, श्रौप, सुर २, ५८)।

सुगवा स्त्री [सुगन्वा] पश्चिम विदेह का एक विजयक्षेत्र (इक)।

सुगवि देखो सुअधि (श्रौप)। °पुर न [°पुर] वैताव्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)।

सुगण वि [सुगण्] अच्छी तरह गिनेवाला (षड्)।

सुगम वि [सुगम] १ अल्प परिश्रम से जाया जा सके वैसा, सुख-गम्य (श्रौषभा ७५)। २ सुबोध (वेद्य ३६३)।

सुगय वि [सुगत] १ अच्छी गतिवाला (ठा ४, १—पत्र २०२, कुप्र १००)। २ सुस्थ । ३ धनी । ४ गुणी (ठा ४, १—पत्र २०२, राज, हे १, १७७)। ५ पु. बुद्धदेव (पाश्र, पव ६४)।

सुगय वि [सौगत] बुद्ध-भक्त, बौद्ध (सम्मत् १२०)।

सुगर वि [सुकर] सुख-साध्य, अल्प परिश्रम से हो सके ऐसा (आचा १, ६, १, ८)।

सुगरिट्ठ वि [सुगरिष्ठ] अति बड़ा (श्रु १६)।

सुगिज्झ वि [सुग्राह] सुख से ग्रहण करने योग्य (पचम ३१, ५४)।

सुगिम्ह पु [सुग्रीष्म] १ चैत्र मास की पूर्णिमा (ठा ५, २—पत्र २१३)। २ फाल्गुन का उत्सव (दे ८, ३६)।

सुगिर वि [सुगिर] अच्छी वाणीवाला (षड्)।

सुगिहिय } वि [सुगृहीत] विख्यात, सुगिहीय } विश्रुत (स ६६, १३)।

सुगी देखो सुई = शुकी (कुमा)।

सुगुत्त पु [सुगुत्त] एक मंत्री का नाम (महा)।

सुगुरु पु [सुगुरु] उत्तम गुरु (कुमा)।

सुगन [दे] १ आत्म-कुशल (दे ८, ५६, सण)। २ वि निविघ्न, विघ्न-रहित । ३ विसर्जित (दे ८, ५६)।

सुगाइ देखो सुगाइ (सुपा १६१, स ८१)।

सुगाय देखो सुगय = सुगत (ठा ४, १—पत्र २०२)।

सुगाह अक [प्र + स] फैलना । सुगाहइ (धात्वा १५६)।

सुगीव पुं [सुगीव] ? नामकुमार देवों के इन्द्र भूतानन्द के अश्व-सैन्य का अधिपति

(ठा ५, १—पत्र ३०२)। २ भारतवर्ष में होनेवाला नववाँ प्रतिवासुदेव राजा (सम १५४)। ३ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लङ्का-पति (पचम ५, २६०)। ४ नववें जिनदेव के पिता का नाम (सम १५१)। ५ राजा बालि का छोटा भाई (पचम ६, ६, से १, ४६, १४, ३६)। ६ एक राजा का नाम (सुर ६, २१४)। ७ न. नगर-विशेष (उत्त १६, १)।

सुघ (अप) देखो सुह = सुख (हे ४, ३६६)।

सुघट्ट वि [सुघृष्ट] अच्छी तरह घिसा हुआ (राय ८० टी)।

सुघरा स्त्री [सुगृहा] मादा-पक्षी की एक जाति, जो अपना घोंसला खूब सुन्दर बनाती है (प्राच १)।

सुघोस पु [सुघोष] १ एक कुलकर-पुरुष (सम १५०)। २ एक पुरोहित का नाम (उप ७२८ टी)। ३ पुंन सनत्कुमार देवलोक का एक विमान (सम १२)। ४ लान्तक नामक देवलोक का एक विमान (सम १७)। ५ वि. सुन्दर आवाजवाला (जीव ३, १, भवि)। ६ एक नगर का नाम (विपा २, ८)।

सुघोसा स्त्री [सुघोषा] १ गीतरति नामक गन्धर्व-देव की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। २ गीतरतनामक गन्धर्व की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४)। ३ सुघर्षेन्द्र की प्रसिद्ध पटा (पण्ह २, ५—पत्र १४६, सुपा ४५)। ४ वाय विशेष (राय ४६)।

सुघद पु [सुघद] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न दूसरे जिन-देव (सम १५३)।

सुचरिअ न [सुचरित] १ सदाचरण, सदा-चार (कप्प, गजड)। २ वि सदाचरण सपन्न (गजड)। ३ अच्छी तरह आचरित (पचम ७५, १८, राया १, १६—पत्र २०५)।

सुचिण्ण } वि [सुचीर्ण] १ सम्यग् आच-सुचिन्न } रित, 'तत्रसज्जो सुचिण्णोवि' (पचम ६, ६५, ६४, ३२, ठा ४, २—पत्र २१०)। २ न पुण्य (श्रौप, उवा)।

सुचिर न [सुचिर] प्रत्यन्त चिर काल, सुदीर्घ काल (सुपा २७, महा, प्रासू ३२)।

°वलोक पु [°वलोक] १ सिंह की तरह पीछे की तरफ देखना । २ छन्द-विशेष (पिंग) । °सण न [°सण] आसन-विशेष, राजासन, राज-गद्दी (महा) । देखो सीह ।

सिंहल पुं [सिंहल] १ देश-विशेष, सिंहल-द्वीप, लका द्वीप (इक, सुर १३, २५, २७) । २ पुत्री सिंहल-द्वीप का निवासी (श्रौप) । बी °ली (श्रौप, णाया १, १—पत्र ३७) ।

सिंहलिआ बी [दे] शिखा, चोटी (पाम्र) । सिंहीणी बी [सिंहीनी] छन्द-विशेष (पिंग) । सिंहीभूय न [सिंहीभूत] व्रत-विशेष, चतुर्विध आहार की संलेखना—परित्याग (सबोध ५८) ।

सिकता } बी [सिकता] बालू, रेत (अणु
सिकया } २७० टी, पउम ११२, १७, विसे
१७३६) ।

सिक्क पु [सूक्] होठ का अन्त भाग (दे १, २८) ।

सिक्कग पुन [शिक्यक] सिकहर, सीका, छोका, रस्सी की बनी डोलनुमा एक चीज जो द्रत में लटकायी जाती है और उसमें चीजें रख दी जाती हैं जिसे उसमें चींटियों न चढ़ें और उसे विल्ली न खाय (राय ६३, उवा, निचू १, आवक ६३ टी) ।

सिक्कड पुन [दे] खटिया, मचिया, 'कोव-अवणम्मि जरजिन्नसिककडे पडइ जरियव्व' (सुपा ६) ।

सिक्कय देखो सिक्का (राय ६३, आवक ६३ टी, स ५८३) ।

सिक्करा बी [शर्करा] खड, टुकड़ा, सय-सिक्करो' (स ६६३) ।

सिक्करिअ न [सीसकृत] अनुराग से उत्पन्न आवाज (गा ३६२) ।

सिक्करिआ बी [दे श्रीकरा] जहाज का आभरण-विशेष (सिरि ३८७) ।

सिक्कार पु [सीत्कार] १ अनुराग की आवाज (गा ७२१, भवि, सण, नाट—मूच्छ १३६) । २ हाथी की चित्ताहट, 'कुंतविण्णिन्नकरि-कलहसुक्कसिक्कारपउरम्मि सपरम्मि' (एमि १६) ।

सिक्किआ बी [शिक्या, शिक्यिका] रस्सी की बनी हुई एक चीज जो चढ़ने के काम में आती है (सिरि ४२४) ।

सिक्कल सक [शिक्ष] सीखना, पढना, अभ्यास करना । सिक्कड (गा ४७७, ५२४), सिक्कतु सिक्कह (गा ३६२, गुण ४) । भवि सिक्कलस्सामि (स्वप्न ६७) । वक्क सिक्कलत, सिक्कलमाग (नाट—मूच्छ १४१, पि ३६७, सूत्र १, १४, १) । सक सिक्किलअ (नाट—रत्ना २१) । हेक्क सिक्किलअ (गा ८६२) ।

सिक्कल देखो सिक्खाव । वक्क सिक्कलयत (पउम ८२, ६२) । क सिक्कलगीअ (पउम ३२, ५०) ।

सिक्कलग वि [शिक्षक] शिक्षा-कर्ता, 'दुक्खाण सिक्कग त परिणदमिह मे दुक्कय (रभा) । सिक्कलग पु [शिक्षक] नूतन शिष्य (सूअनि १२८) ।

सिक्कलग न [शिक्षण] १ अभ्यास, पाठ (कुप्र २३०) । २ सीख, उपदेश (सुर ८, ५१) । ३ अध्यापन, पाठन (सिरि ७८१) ।

सिक्कलव देखो सिक्खाव । सिक्कलवसु (गा ७५०, ६५८) । कक्क सिक्कलविज्जमाण (सुपा ३१५) । क सिक्कलचियव्व (सुपा २०७) ।

सिक्कलवअ वि [शिक्षक] शिक्षा देनेवाला, पढानेवाला, शिक्षक (प्राक् ६१) ।

सिक्कलविअ वि [शिक्षित] १ सिखाया हुआ, पढाया हुआ (गा ३५२) । २ न शिक्षा देना, अभ्यास कराना, अध्यापन (सुपा २५) ।

सिक्खा बी [शिक्षा] १ सजा, दण्ड (कुप्र ११०) । २ वेद का एक अङ्ग, वर्णों के उच्चारण सम्बन्धी ग्रथ विशेष, अक्षरों के स्वरूप को बतलानेवाला शास्त्र, 'सिक्खावा-गरणद्वक्कल्लो' (धर्मवि ३८, श्रौप, कप्प, अत) । ३ शास्त्र और आचार सम्बन्धी शिक्षण, अभ्यास, सीख, सिखाई, उपदेश (श्रौप, वृह १, महा, कुप्र १६७) । °वय न [°व्रत] व्रत-विशेष, जैन गृहस्थ के सामायिक आदि चार व्रत (श्रौप, महा, सुपा ५४०) । °वय न [°पद] शिक्षा-स्थान (श्रौप) ।

सिक्खा (अप) बी [शिखा] द्रव विशेष (पिंग) ।

सिक्खाण न [शिखाण] आचार-सम्बन्धी उपदेश देनेवाला शास्त्र (कप्प) ।

सिक्खाव सक [शिक्षय] सिखाना, पढाना, अभ्यास कराना । सिक्खावेइ (पि ५५६) । भवि सिक्खावेहिंति (श्रौप) । सक सिक्खा वेत्ता (श्रौप) । हेक्क सिक्खावित्तप, सिक्खावेत्तए, सिक्खावेत्त (अ २, १—पत्र ५६ कस, पचा १०, ४८ टी) । सिक्खावअ देखो सिक्कलयअ (गा ३५८, प्राक् ६१) ।

सिक्खावण न [शिक्षण] सिखाना, सीख, हितोपदेश (सुल २, १६, प्राक् ६१, कप्प) । सिक्खावणा बी [शिक्षणा] ऊपर देखो (सूअनि १२७, उप १५० टी) ।

सिक्खाविअ वि [शिक्षित] सिखाया हुआ (अग, पउम ६७, २२, णाया १, १—पत्र ६०, १, १८—पत्र २३६) ।

सिक्खिलअ वि [शिक्षित] सिखा हुआ, जानकार, विद्वान (णाय १, १४—पत्र १८७, श्रौप) ।

सिक्खिर वि [शिक्षित] सीखने की भावतवाला, अभ्यासी (गा ६६१) ।

सिखा बी [शिखा] द्रव विशेष (पिंग) । सिखि देखो सिहि-शिखिन (नाट—वि ३४) ।

सिगया देखो सिकया (राज) ।

सिगाल देखो सिआल (सण) ।

सिगाली देखो सिआली = श्रुगाली (वा ११) ।

सिग्ग वि [दे] १ श्राव, वका हुआ (६८, २८, मोघ २३) । २ पुन परिवय, पकावट (वव ४) ।

सिग्गु पु [शिग्गु] वृक्ष विशेष, संहिन्ना का पेड़ (दे ६, २०, पाम) ।

सिग्घ न [शीघ्र] १ जल्दी, तुरत । २ वि शीघ्रता-युक्त, दवरा-युक्त (पाम, स्वप्न २६, चंड, कप्प, महा, सुर १, २१०, ६, ६६ सुपा ५८०) ।

सिचय पु [सिचय] वज, कपड़ा (अग, गा २६१, कुप्र ६३३) ।

की पटरानी—तोसरा खी-रत्न (सम १५२, महा) । ३ भूतानन्द आदि इन्द्रो के लोकपालो की अग्रमहिषियो के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४, इक) ।

सुणकखत्त पु [सुनक्षत्र] १ एक जैन मुनि (प्रनु २) । २ भगवान् महावीर का शिष्य एक भ्रनि (भग १५—पत्र ६७८) ।

सुणकखत्ता खी [सुनक्षत्रा] पक्ष की दूसरी रात (सुज्ज १, १४) ।

सुणग देवो सुणय (आचा, पि २०६) ।

सुणण न [श्रवण] सुनना (स ५३) ।

सुणय } पुखी [सुनरु] १ कुक्कुर, कुत्ता (हे सुणह } १, ५२, गा ५५०, ६८८, ६९०, णाया १, १—पत्र ६५, गा १३८, १७५, सुर २, १०३, ६, २०४, आ १६, कुप्र १५३, रभा) । खी सुणई, सुणिआ (कुमा, गा ६८६) । २ पु खन्द-विशेष (पिग) ।

सुणहिल्लया खी [सुनकी] कुत्तो, मादा-कुक्कुर (वज्जा ८६) ।

सुणावण न [श्रवण] सुनाना (विसे २४८५) ।

सुणाविअ वि [श्रावित] सुनाया हुआ (सुपा ६०२) ।

सुणासीर पु [सुनासीर] इन्द्र, देव-राज (पाप्र, हम्मोर १२) ।

सुणाह देवो सुनाभ (राज) ।

सुगिअ देवो सुण ।

सुणिअ वि [श्रुत] सुना हुआ (कुमा, रयण ४४) ।

सुणिअ पु [शौनिक] कसाई (सिरि १०७७) ।

सुणिउण देवो सुनिउण (राज) ।

सुणिप्पकप देवो सुनिप्पकप (राज) ।

सुणिम्मिय वि [सुनिर्मित] चार रूप से बना हुआ (कम्प) ।

सुणिब्बुय वि [सुनिर्वृत] अत्यन्त स्वल्प (णाया १, १—पत्र ३२) ।

सुणिसत वि [सुनिशान्त] अच्छी तरह सुना हुआ, इहेमेगे गायारणोये एो सुणिसते भवति (आचा १, ८, १, २, २, २, २, १०, १३, १५) ।

सुणुसुणाय सक [सुनसुनाय] 'सुन' 'सुन' प्राणज करना । वरु सुणुसुणायत (महा) ।

सुणण न [शून्य] १ निर्जन स्थान (गउड ५२४) । २ वि. रिक्त, रोता, खाली (स्वप्न ३१ गउड) । ३ निष्फल, व्यर्थ, निष्प्रयोजन (गउड ८४२, ९७२) । ४ न तप-विशेष, एकाशन-व्रत (सवोच ५७) । देवो सुन्न ।

सुणणआर देवो सुणणार (दे ३, ५४) ।

सुणणइअ } वि [शून्यत] शून्य किया
सुणणविअ } हुआ (से ११, ४०, गउड, गा २६, १६६, ६०६) ।

सुणणार पु [सुवर्णकार] सुनार, सोनी (दे ५, ३६) ।

सुण्ह देवो सण्ह=सूक्ष्म (हे १, ११८, कुमा) ।

सुण्हसिअ वि [दे] स्वपन-शील, सोने की आदतवाला (दे ८, ३६, पड्) ।

सुण्हा खी [सासना] गौ का गल-कम्बल (हे १, ७५, कुमा) । °ल पु [°ल] वृषभ, बैल (कुमा) । °लचिघ पु [°लचिह] १ भगवान् ऋषभदेव । २ महादेव (कुमा) ।

सुण्हा खी [सुषा] पुत्र-वधू (णाया १, ७—पत्र ११७, सुर ४, ६८) ।

सुतणु खी [सुतजु] नारी, खी (सुर २, ८६) ।

सुतर अ [सुनराम] निश्चित अर्थ के अतिशय का सूचक अव्यय (विसे ८६१) ।

सुतवसिय न [सुतपसित] सुन्दर तप, तपस्वर्या का सुन्दर अनुष्ठान (राज) ।

सुतवसिअ वि [सुनपसिन्] अच्छा तपस्वी (सम ५१) ।

सुनार वि [सुनार] १ अत्यन्त निर्मल । अति-शय ऊँचा । ३ अच्छा तेरनेवाला । अत्युच्च प्रावाजवाला (हे १, १७७) ।

सुतारया } खी [सुनारा] १ भगवान् सुनिव-
सुतारा } नाथजी की शासन-देवी (सति ६) ।
२ सुप्रीव की पत्नी (पउम १०, ६) । ३
श्राभूपण-विशेष (कुमा) ।

सुतितिकख वि [सुतितिक] सुख से सहन करने योग्य (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुतोसअ वि [सुतोष्य] सुख से तृप्त करने योग्य (वस ५, २, ३४) ।

सुस सक [सूत्र्य] बनाना । सुसइ (सुपा २३५) ।

सुत्त देवो सुअ=श्रुत, 'पचकखमोहिमण-केवल च परोक्ख मइसुत्त' (जीवस १४१) ।

सुत्त देवो सोत्त = स्रोतस् (भवि) ।

सुत्त देवो सोत्त = श्रोत्र (रभा, भवि) ।

सुत्त वि [सुत्त] सोया, शयित (ठा ५, २—पत्र ३१६, स्वप्न १०४, प्रासू ६८, आ २५) ।

सुत्त वि [सुत्त] १ सुचार रूप से कहा हुआ । २ न सुभाषित, सुन्दर वचन, 'सुकइव्व सुत-उत्तीए' (सुपा ३३) ।

सुत्त न [सूत्र] सूता, धागा, वरु तन्तु (विपा १, ८—पत्र ८५, सुपा २८१) । २ नाटक का प्रस्ताव (मोह ४८, सुपा १) । ३ शास्त्र-विशेष (भग, ठा ४, ४—पत्र २८३, जी ३६) । °आर पु [°कार] ग्रथकार (कप्पु) । °कठ पु [°कठ] ब्राह्मण, विप्र (पउम ४, ६५) । °कठ न [°कठ] द्वितीय जैन आगम-ग्रथ (सुअनि २) । °रा न [°क] यनोपवीत (श्रौप) । °धार पुं [°धार] देवो °हार (सुपा १, मोह ४८) । °फासियणिउज्जुत्ति खी [°स्पशिकनिर्युक्ति] सूत्र की व्याख्या (अणु) । °रुई खी [°रुचि] शास्त्र-अज्ञा (श्रौप) । °हार पु [°धार] १ प्रधान नट, नाटक का मुख्य पात्र (प्रासू १६३) । २ सुतार, ऋद्धई (कम्म १, ४८) ।

सुत्ति खी [शुक्ति] सोप, घोषा (हे २, १३८, कुमा) । °मई खी [°मती] वैदि देश की प्राचीन राजधानी (णाया १, १६—पत्र २०८) ।

सुत्ति खी [सुक्ति] सुन्दर वचन, सुभाषित । °वत्तिया खी [°प्रत्यया] एक जैन मुनि-शाखा (कम्प—पृ ७६ टि. राज) ।

सुत्तिय देवो सोत्तिय = सौत्रिक (वव ६) ।

सुत्तिय वि [सूत्रित] सूत्र-निबद्ध (राज) ।

सुत्थ वि [सुत्थ] १ स्वल्प, तन्दुरुस्त । २ सुखी (सक्ति १२, गा ४७८, महा, चेइय २६६, उप १०३१ टी) ।

सुत्थ न [सौत्थ्य] १ तदुत्तरो, स्वस्थता । २ सुखिपन (सक्ति १२, कुप्र १७६, सुपा १८, १५८, स १३५, उप ६०२, धर्मवि २२) ।

सिणेह देखो सणेह (भग. णाया १, १३—
पत्र १८१, स्वप्न १५, कुमा, प्रासू ६) ।

सिणेहालु वि [स्नेहघत्] स्नेहवाला (स
७६३) ।

सिण्ण वि [स्विन्न] स्वेद-युक्त (गा २४४) ।

सिण्ण देखो सिन्न = शीर्ण (नाट—मृच्छ
२१०) ।

सिण्ह पुन [शिश्न] पुच्छिह, पुरुष-लिंग
(प्राप्र. दे ४, ५) ।

सिण्हा लो [दे] १ हिम, आकाश से गिरता
जल-कण (दे ८, ५३) । २ अवश्याय, कुहरा,
कुहासा (दे ८, ५३, पात्र) ।

सिण्हालय पुन [दे] फल-विशेष (अनु ६) ।

सिति देखो सिद्ध = (दे) (वव १०) ।

सित्त वि [सिक्त] सीचा हुआ (सुर ४, १४५,
कुमा) ।

सित्तुंज देखो सेत्तुंज (सूक्त ५२) ।

सिस्थ न [दे] गुण, धनुष की डोरी, 'सिस्थ
व असोत्तमय मह मण देव हुमेद' (कुप्र ५४,
पात्र) ।

सिस्थ } न [सिक्थ] १ धान्य-कण (परह
सिस्थय } १, ३—पत्र ५५, कप्प, औप,
अणु १४२) । २ मोम (दे १, ५२, पात्र,
उप ७२८ टी) । ३ श्लोपधि विशेष, नीली,
नील (हे २, ७७) । ४ पुन, कवल, प्रास,
'भासे भासे उ जा अज्जा एगसिस्थेण पारए'
(गच्छ ३, २८, प्राप्र) ।

सिस्था लो [दे] १ लाला । २ जीवा, धनुष
की डोरी (दे ८, ५३) ।

सिस्थि पु [दे] मत्स्य, मछली (दे ८, २८) ।

सिद्ध वि [दे] परिपाटित, विदारित, चीरा
हुआ (दे ८, ३०) ।

सिद्ध वि [सिद्ध] १ युक्त, मोक्ष-प्राप्त, निर्वाण-
प्राप्त (ठा १—पत्र २५, भग, कप्प, वित्ते
३०२७, २६, सम्म ८६, जी २५, सुपा
२४४, ३४२) । २ निष्पन्न, बना हुआ
(प्रासू १५) । ३ पका हुआ (सुपा ६३३) ।
४ शाश्वत, नित्य (वेद्य ६७६) । ५ प्रतिष्ठित,
लब्ध प्रतिष्ठ (चेद्य ६७६, सम्म १) । ६
निश्चित, निर्णीत (सम्म १) । ७ विख्यात,
प्रसिद्ध (वेद्य ६७०) । ८ शब्द-विशेष,

साध्य-विलक्षण शब्द (भास ८६) । ९ सावित
किया हुआ । १० प्रतीत, ज्ञात (पचा ११,
२६) । ११ पुं. विद्या, मन्त्र, कर्म, शिल्प
आदि में जिसने पूर्णता प्राप्त की हो वह
पुरुष (ठा १—पत्र २५, वित्ते ३०२८, वजा
६८) । १२ समय-परिमाण विशेष, स्तोक-
विशेष (कप्प) । १३ न, लगातार पनरह
दिनों के उपवास (सबोध ५८) । १४ पुन
महाहिमवत् आदि अनेक पर्वतों के शिखरों
का नाम (ठा ८—पत्र ४३६, ६—पत्र
४५४, इक) । १५ क्वर पुन [क्षर] 'नमो
अरिहताए' यह वाक्य (भाव) । १६ गडिया
लो [गण्डिका] सिद्ध सबन्धों एक ग्रन्थ-
प्रकरण (भग) । १७ चक्र न [चक्र] अहं
आदि नव पद (सिरि ३४) । १८ न [न]
पकाया हुआ अन्न (सुपा ६३३) । १९ पुत्र पु
[पुत्र] जैन साधु और गृहस्थ के बीच की
अवस्थावाला पुरुष (सबोध ३१, निचू १) ।
२० मणोरम पुं [मनोरम] पक्ष का दूसरा
दिन (सुज १०, १४) । २१ राय पु [राज]
विक्रम की बारहवीं शताब्दी का गुजरात का
एक सुप्रसिद्ध राजा, जो सिद्धराज जयसिंह के
नाम से प्रसिद्ध था (कुप्र २२, वाश्र १५) ।
२२ वाल पु [पाल] बारहवीं शताब्दी का
गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि (कुप्र
१७६) । २३ सेण पु [सेन] एक सुप्रसिद्ध
प्राचीन जैन महाकवि और ताकिक आचार्य
(सम्मत् १४१) । २४ सेणिया लो [श्रणिया]
बारहवीं जैन अग्र ग्रन्थ का एक अंश (एदि) ।
२५ सेल पु [शैल] शत्रुजय पर्वत, सोराष्ट्र
देश में पालीताना के पास का जैन महा-
तीर्थ (सुख १, ३, सिरि ५५२) । २६ हेम
न [हेम] आचार्य हेमचन्द्र विरचित प्रसिद्ध
व्याकरण-ग्रन्थ (मोह २) ।

सिद्धत पु [सिद्धान्त] १ आगम, शास्त्र (उब,
बृह १, एदि) । २ निश्चय (स १०३) ।

सिद्धत्थ पु [दे] रत्न, देव-विशेष (दे ८,
३१) ।

सिद्धत्थ वि [सिद्धार्थ] १ कृतार्थ, कृतवृत्त्य
(पठम ७२, ११) । २ पु नगवान् महावीर
के पिता का नाम (सम १५१, कप्प, पठम
२, २१, सुर १, १०) । ३ ऐरवत् वर्ष के

भावी दूसरे जिन-देव (सम १५४) । ४ ए
जैन मुनि जो नववें बलदेव के दोस्त-भूषण
(पठम २०, २०६) । ५ वृक्ष विशेष (सु
७७, पिड ५६१) । ६ सर्प, सर्पों (पु
२३, कुप्र ४६०, पत्र १५४, हे ४, ४३३,
उप पु ६६) । ७ भगवान् महावीर के दात
से कील निकालनेवाला एक बणिक (देव
६६) । ८ एक देव-विमान (सम ३८, भा
२, १५, २, देवेन्द्र १४५) । ९ यज्ञ विशेष
(आक) । १० पाटलिसड नगर का एक राजा
(विपा १, ७—पत्र ७२) । ११ एक नर
का नाम (भग १५—पत्र ६६४) । १२ पुन
[पुन] अग्र देश का एक प्राचीन नगर (सु
२, ६८) । १३ वग न [वन] वन विशेष
(भग) ।

सिद्धत्था लो [सिद्धार्थ] १ भगवान् बनि-
तन्दन स्वामी की माता का नाम (सम
१५१) । २ एक विद्या (पठम ७, १५५) ।
३ भगवान् सभवाणजी की दोस्त शिवा
(विचार १२६) ।

सिद्धत्थिया लो [सिद्धार्थिका] १ शिष्ट-
विशेष (परण १७—पत्र ५३३) । २ प्रा
रण-विशेष, सोने की कठी (शोप) ।

सिद्धय पु [सिद्धक] १ वृक्ष विशेष, सिद्ध
वृक्ष, सन्हालु का गाछ । २ शाल वृक्ष (हे
१, १८७) ।

सिद्धा लो [सिद्धा] १ भगवान् महावीर की
शासन-देवी, सिद्धाधिकार (संति १०) । २
श्रावणी विशेष, मुक्ति-स्नान, सिद्ध शिवा (स
२२) ।

सिद्धाड्या लो [सिद्धाड्या] भगवान् महा-
वीर की शासन-देवी (गण १२) ।

सिद्धायण पुन [सिद्धायतन] १ शरणा
मन्दिर—देव-गृह । २ जिन-मन्दिर (ठा १
२—पत्र २२६, इक, सुर ३, १२) । ३ अहं
पर्वतों के शिखरों का नाम (इक, न १) ।

सिद्धालय लीन [सिद्धालय] मुञ्ज-
मिन्द-शिवा (शोप, पठम ११, १२१ इक) ।
लो 'या (ठा ८—पत्र ४४०, सम २२) ।

सिद्धि लो [सिद्धि] १ सिद्धि दिता, पूर्ण-
विशेष, जहाँ मुक्त जीव रहते हैं (सम ३३, ३४)

खबर, कोई हुई चीज की प्राप्ति, 'बुद्धाविजह पियाइ सुद्धीए' (सुपा ५१७, कुप्र २०२, सम्मत् १७२, कुमा ६)।

सुद्वेसणिअ वि [सुद्धैपणिअ] निर्दोष आहार की खोज करनेवाला (पएह २, १—पत्र १००)।

सुद्वेअण पु [सुद्धोदन] बुद्धदेव के पिता का नाम। 'तणय पु [तनय] बुद्ध देव (सम्म १४५)। देखो सुद्धोदण।

सुद्वेअणि पु [शौद्धोदन] बुद्धदेव (पाम्)। सुद्धोदण देखो सुद्धोअण। 'पुत्त पु [पुत्र] बुद्ध देव (कुप्र ४४०)।

सुधम्म पु [सुधम्मन्] १ भगवान् महावीर का पट्टघर शिष्य (कुमा)। २ एक जैन मुनि (विपा २, ४)। ३ तीसरे बलदेव के गुरु—एक जैन मुनि (पउम २०, २०५)। ४ एक जैन मुनि, जो सातवें बलदेव के पूर्व-जन्म में गुरु थे (पउम २०, १६३)। ५ एक जैनाचार्य, 'वह अज्जमणुसुरि अज्जसुधम्म च धम्मरय' (मार्ध २२)। देखो सुद्धम्म।

सुधा देखो छुद्धा = सुधा (कुमा)।

सुन्द पु [सुन्द] १ भारतवर्ष के भावी दसवें जिनदेव के पूर्वभव का नाम (सम १५४)। २ एक जैन मुनि (पउम २०, २०)। देखो सुणद।

सुनक्खत्त देवो सुणक्खत्त (भग १५—पत्र ६७८, ६८७)।

सुनच्चिा ली [सुनत्तिनी] अच्छी तरह नृत्य करनेवाली ली (सुपा २८६)।

सुनयण पु [सुनयन] १ राजा रावण के अधीनस्थ एक विद्याधर सामन्त राजा (पउम ८, १३३)। २ वि सुन्दर लोचनवाला (आयम)।

सुनाभ पु [सुनाभ] अमरकका नगरी के राजा पचनाम का पुत्र (खाया १, १६—पत्र २१४)।

सुनिउण वि [सुनिपुण] १ अत्यन्त सूक्ष्म (मम ११४)। २ अति चतुर (सुर ४, १३६)।

सुनिउण वि [सुनिगुण] अतिशय निश्चित उपायवाला (मम ११४)।

सुनिगल वि [सुनिगल] चिर-स्थायी (विसे ७६६)।

सुनिच्छय वि [सुनिच्छय] दृढ़ निर्णयवाला (सुपा ४६८)।

सुनिप्पकप वि [सुनिप्पकम्प] अत्यन्त निश्चल (सुपा ६५३)।

सुनिम्मल वि [सुनिम्मल] अतिशय निर्मल (पउम २६, ६२)।

सुनिरुविय वि [सुनिरुपित] अच्छी तरह तलासा हुआ (सुपा ५२३)।

सुनिविन्न वि [सुनिविण्ण] अतिशय विन्न (सुर १४, ५८, उव)।

सुनिव्वुड देखो सुणिव्वुय (द्र ४७)।

सुनिसाय वि [सुनिशात] अत्यन्त तोक्षण (सुपा ५७०)।

सुनिसिअ वि [सुनिशित] ऊपर देखो (दस १०, २)।

सुनिसंसं वि [सुनि शङ्का] बिलकुल शङ्का-रहित (सुपा १८८)।

सुनीविआ ली [सुनीविका] सुन्दर नीवी—बल-ग्रन्थिवाली ली (कुमा)।

सुनेत्ता ली [सुनेत्रा] पाँचवें वासुदेव की पटरानी (पउम २८, १८६)।

सुन्न न [सुन्नय] १ विन्दी (सुर १६, १४६)। २—देखो सुण्ण (प्रासू १०, महा, भग, आचा, स ३६, रमा)। 'पत्तिया ली [प्रत्यायिका, पत्रिका] एक जैन मुनि-शाखा (कम्प)।

सुन्नयार देखो सुण्णआर (सुपा ५६४, धर्मावि १२)।

सुन्नार देखो सुण्णार (सुपा ५६२)।

सुन्हा देखो सुण्हा (वा ३७, भवि)।

सुप सक [सुज्] मार्जन करना, शोधन करना। सुपइ (प्राप्र)।

सुपइड वि [सुप्रतिष्ठ] १ न्याय-मार्ग में स्थित। २ प्रतिज्ञा-शूर (कुमा १, २८)। ३ अतिशय प्रतिष्ठ। ४ जिसकी स्थापना विधि-पूर्वक की गई हो वह (कुमा २, ४०)। ५ पु भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेकर भुक्ति पानेवाला एक गृहस्थ (अत १८)। ६ अग-विद्या का जानकार पंचवर्षी छद् पुरुष (विचार ४७३)। ७ भगवान् सुपारवनाथ के पिता का

नाम (सुपा ३६)। ८ भाद्रपद मास का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १०, १६)। ९ पात्र-विशेष (राय)। १० न. एक नगर का नाम (विपा १, ६—पत्र ८८)। 'भ पुन [भ] एक देव-विमान (सम १४, पव २६७)।

सुपइट्टिय वि [सुप्रतिष्ठित] अच्छी तरह प्रतिष्ठा-प्राप्त (भग, राय)।

सुपक वि [सुपक] अच्छी तरह पका हुआ (प्रासू १०२, नाट—पुच्छ ५७)।

सुपडाय वि [सुपताक] सुन्दर ध्वजावाला (कुमा)।

सुपडिबुद्ध वि [सुप्रतिबुद्ध] १ सुन्दर रीति से प्रतिबोध को प्राप्त (आचा १, ५, २, ३)। २ पु एक जैन महावि (कम्प)।

सुपडिवत्त वि [सुपरिवृत्त] जो अच्छी तरह हुआ हो वह (पउम ६४, ४५)।

सुपणिहिय वि [सुप्रणिहित] सुन्दर प्रणि-धानवाला (पएह २, ३—पत्र १२३)।

सुपण्ण देखो सुपपन्न (राज)।

सुपण्ण } पु [सुवर्ण] गरुड पक्षी (नाट, कुप्र सुपन्न } ६३)।

सुपन्नत्त वि [सुप्रज्ञप्त] १ सुन्दर रूप से कथित (आचा १, ८, १, ३)। २ सम्यग्-अश्लेषित (दस ४, १)।

सुपभ देखो सुपपभ (राज)।

सुपन्ह पुं [सुपक्षमन्] १ एक विजय-क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०)। २ पुन एक देव-विमान (सम १५)।

सुपरिकम्मिय वि [सुपरिकर्मित] सुन्दर सस्कारवाला (खाया १, ७—पत्र ११६)।

सुपरिक्खिय } वि [सुपरीक्षित] अच्छी सुपरिच्छिय } तरह जिसकी परीक्षा की गई हो वह (उव, प्रासू १५)।

सुपरिण्हिय } वि [सुपरिनिष्ठित] अच्छी सुपरिनिद्धिय } तरह नियुक्त (राज, भग)।

सुपरिप्फुड वि [सुपरिस्फुट] सुस्पष्ट (पउम ४५, २६)।

सुपरिसत्त वि [सुपरिश्रान्त] अतिशय थका हुआ (पउम १०२, ४५)।

सुपरुञ्ज वि [सुपरुदित] जिसने जोर से रोने का आरम्भ किया हो वह (खाया १, १८—पत्र २४०)।

जिनदेव (सम १५४, पव ७)। ३ आठनें वलदेव का पुर्वभवोय नाम (पउम २०, १६१)। चदा वी [चन्द्रा] १ एक पुष्करिणी (इक)। २ एक राज-पत्नी (उप ६८६ टी)। डड पु [आढ्य] एक जैन मुनि (कप्प), गयर न [नगर] वैताढ्य की दक्षिण-श्रेणी का एक विद्याधरनगर (इक)। देखो नयर। णिकेतण न [निकेतन] वैताढ्य की उत्तर-श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक)। णिलय न [निलय] वैताढ्य पर्वत की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक नगर (इक)। देखो निलय। णिलया वी [निलया] एक पुष्करिणी (इक)। णिहुवय पु [कामरु] विष्णु, श्रीकृष्ण (कुमा)। ताली वी [ताली] वृक्ष-विशेष (कप्प)। दत्त पु [दत्त] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न पांचवें जिन-देव (पव ७)। दाम न [दामन] १ शोभावाली माला (ज ५)। २ आभरण-विशेष (आनम)। ३ पु एक राजा (विपा १, ६—पत्र ६४)। दामकड, दामगड पुन [दामकाण्ड] १ शोभावाली मालाओं का समूह (ज ५)। २ एक देव-विमान (सम ३६)। दामगड पुन [दामगण्ड] १ शोभावाली मालाओं का दण्डाकार समूह (ज ५)। देवी वी [देवी] १ देवी-विशेष (राज)। २ लक्ष्मी (धर्मवि १४७)। देवीनरण पु [देवी-नन्दन] कामदेव (धर्मवि १४७)। नन्दण पु [नन्दन] १ कामदेव। २ वि श्री से समृद्ध (सुपा २३४, धम्म १३ टी)। नयर न [नगर] दक्षिण देश का एक शहर (कुमा)। देखो गयर। निलय पु [निलय] वासुदेव (पउम ३८, २०)। देखो णिलय। पट्ट पु [पट्ट] नगर-सेठई का सूचक एक राज-चिह्न (सुपा २८३)। पव्वय पु [पर्वत] पर्वत-विशेष (वज्जा ६८)। पह पु [प्रभ] एक प्रसिद्ध जैन आचार्य और ग्रन्थकार (धमवि १५२)। पाल देखो वाल (सिरि ३४)। फल पु [फल] विल्व-वृक्ष (कुमा)। देखो हल। भूइ पु [भूवि] भारतवर्ष में होनेवाले छठवें चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। म देखो

मत (उप पृ ३७४)। मई वी [मती] १ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज की एक पत्नी (पउम ६, ३)। २ एक राज-पत्नी (महा)। ३ एक सारथवाह कन्या (महा)। मगल पु [मङ्गल] दक्षिण भारत का एक देश (उप ७२८ टी)। मन वि [मत्] १ शोभावाला, शोभा-युक्त (कुमा)। २ पु तिलक वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष। ४ विष्णु। ५ शिव, महादेव। ६ धान, कुत्ता (हैं २, १५६, पड)। मलय न [मलय] वैताढ्य की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर (इक)। महिअ पुन [महिक] एक देव विमान (सम २७)। महिआ वी [महित] एक पुष्करिणी (इक)। माल पु [माल] एक प्रसिद्ध वंश (कुप्र १४३)। मालपुर न [मालपुर] एक नगर (ती १५)। यठ देखो कठ (गउड)। यठल देखो कडल (पएह १, १—पत्र ७)। वइ पु [पति] श्रीकृष्ण, वासुदेव (सम्मत् ७५)। वच्छ पु [वत्स] १ जिनदेव आदि महापुरुषों के हृदय का एक ऊँचा भव्यवाकार चिह्न (ग्रीप, सम १५३, महा)। २ महेंद्र देवलोक के इन्द्र का एक पारिपानिक विमान (ठा न—पत्र ४३७)। ३ एक देव-विमान (सम ३६, देवेन्द्र १४०, धौप)। वच्छा वी [वत्सा] भगवान् श्रेयामनाथजी की शासन-देवी (सति ६)। वडिलय न [अवतसरु] सौधर्म देवलोक का एक विमान (राज)। वण न [वन] एक उद्यान (अत ४)। वणो वी [पर्णी] वृक्ष-विशेष (पराण १—पत्र ३१)। वत्त (ग्रप) देखो मत्त (भवि)। वट्टण पु [वर्तन] एक राजा (पउम ५, २६)। वथ पु [वत्] पत्ति विशेष (दे १, ६७, ८, ५२ टी)। वारिसेण पु [वारि-सेण] ऐरवत वर्ष में होनेवाले चौबीसवें जिनदेव (पव ७)। वाल पु [पाल] १ एक प्रसिद्ध जैन राजा (सिरि ३१७)। २ राजा सिद्धराज के समय का एक जैन महाकवि (कुप्र २१६)। सभूआ वी [सभूता] पक्ष की छठवीं रात (सुउज १०, १४)। सिचय पु [सिचय] ऐरवत वर्ष में

उत्पन्न दूसरे जिनदेव (पव ७)। सेण पु [सेण] एक राजा (उप ६८६ टी)। सेल पु [सेल] हनुमान (पउम १७, १२)। सोम पु [सोम] भारतवर्ष में होनेवाला सातवां चक्रवर्ती राजा (सम १५४)। सोमणस पुन [सौमनस] एक देव विमान (सम २७)। हर न [हर] मडार (आ २८)। हर पु [हर] भगवान् पार्श्वनाथ का एक मुनि गण। २ भगवान् पार्श्वनाथ का एक गणधर—मुख्य शिष्य (कप्प)। ३ भारतवर्ष में श्रौत उत्सर्पणी काल में उत्पन्न सातवें जिनदेव। ४ ऐरवत वर्ष में वर्तमान प्रवर्तमान काल में उत्पन्न चौसठवें जिनदेव (पव ७, ज ६८६ टी)। ५ वासुदेव (पउम ४७, ४६ पड)। हर वि [हर] श्री को हार करनेवाला (कुमा)। हल न [फल] विल्व फल (पात्र), देखो फल।

सिरिअ पु [श्रीक, श्रीयक] स्थूलगद का छोटा भाई और नन्द राजा का एक मन्त्री (पडि)।

सिरिअ न [स्वैर्य] स्वच्छन्दता (वे ७३)।

सिरिण पु [दे] विट, लम्पट, काफुर (दे ८, ३२)।

सिरिइह पु [दे] पत्तियों का पत-पात्र (पात्र, दे ८, ३२)।

सिरिसुह नि [दे] मद-मुख, जिसके मुख में मद हो वह (दे ८, ३२)।

सिरिया देखो सिरि (सम १५१)।

सिरिली वी [दे श्रीली] कन्द विशेष (व ३६, ६८)।

सिरिवच्छीव पु [दे] गोपाल, खाला (दे ८, ३३)।

सिरिवय पु [दे] हंस पक्षी (दे ८, ३२)। सिरिवय देखो सिरि-वय।

सिरिस पु [शिरीष] १ वृक्ष-विशेष, सिर का पेठ (सम १५२, हे १, १०१)। २ सिरसा का फूल (कुमा)।

सिरी वी [श्री] १ लक्ष्मी, कमला (पा कुमा)। २ सपत्ति, समृद्धि, विभव (पा कुमा)। ३ शोभा (ग्रीप, राय, कुमा)।

सुवभण पुं [सुव्राह्मण] प्रशस्त विप्र (वि २५०)।

सुवद्ध वि [सुवद्ध] अच्छी तरह बँधा हुआ (जव)।

सुवल पुं [सुवल] १ सोम-वध का एक राजा (पउम ५, ११)। २ पहले बलदेव का पूर्व-जन्मीय नाम (पउम २०, १६०)।

सुवलिट्टि वि [सुवलिट्टि] अतिशय बलवान् (श्रु १८)।

सुवहु वि [सुवहु] अति प्रभूत (जव)।

सुवहुल वि [सुवहुल] ऊपर देखो (कम्प)।

सुवाहृ पु [सुवाहृ] १ एक राज-कुमार (विपा २, १—पत्र १०३)। २ वी सविमराज की एक कन्या (णया १, ८—पत्र १४०)।

सुवुद्धि वी [सुवुद्धि] १ सुन्दर प्रजा (धा १४)। २ पु राम-भ्राता भरत के साथ दोषा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ३)। ३ एक मन्त्री (महा)।

सुवभ वि [सुवभ] १ सफेद, श्वेत (सुपा ५०६)। २ न एक प्रकार की चाँदी (राय ७५)।

सुवभ न [शौभ्रय] सफेदी, श्वेतता (सबोध ५२)।

सुविभ पु [सुरभि] १ सुगन्ध, बुशबू (सम ४१, भग, णया १, १२)। २ वि सुगन्धी, सुगन्धयुक्त (उत्त ३६, २८, आचा १, ६, २, ३)। ३ मनोहर, मनोज, सुन्दर (णया १, १२—पत्र १७४)।

सुविभस्वर न [सुभिक्ष] सुकाल (सुपा ३५८)।

सुवु वी [सुवु] नारी, महिला (रभा)।

सुभ पु [शुभ] १ भगवान् पार्श्वनाथ का प्रथम गणधर (ठा ८—पत्र ४२६, सम १३)। २ भगवान् नमिनाथ का प्रथम गणधर (सम १५२)। ३ एक मुहूर्त (पउम १७, ८२)। ४ न नाम-कर्म का एक भेद (सम ६७, कम्म १, २६)। ५ मंगल, कल्याण। ६ वि मंगल-जनक, मागलिक, प्रशस्त (कम्प, भग, कम्म १, ४२, ४३)। ७ वीस पु [वीस] भगवान् पारसनाथ का द्वितीय गणधर (सम १३)। ८ पु [विभुर्मन्] चातस-पथ का एक राजा (पउम ५, २६२)। देखो सुह = शुन।

सुभकर न [शुभकर] वरुण नामक लोकान्तिक देवो का विमान (राज)। देखो सुहकर।

सुभरा वि [सुभरा] १ आनन्द-जनक (कम्प)। २ सौभाग्ययुक्त, बल्लभ, जन-प्रिय (सुज्ज २०)। ३ न पद्म-विशेष (सुश्र २, ३, १८, राय ८२)। ४ कर्म-विशेष (सम ६७, कम्म १, २६, ५०, धर्मस ६२० टी)।

सुभगा वी [सुभगा] १ लता-विशेष (पराण १—पत्र ३३)। २ रूप नामक भूतेन्द्र की एक पटरानी (ठा ४, १—पत्र २०४, णया २—पत्र २५३, इक)।

सुभग्य वि [सुभाग्य] भाग्य-शाली, जिसका भाग्य अच्छा हो वह (जव १०३१ टी)।

सुभड देखो सुहड (नाट—मालती १३८)।

सुभणिय वि [सुभणित] वचन कुशल (जव)।

सुभद् पु [सुभद्] १ इक्ष्वाकु-वध का एक राजा (पउम २८, १३६)। २ दूसरे वासुदेव तथा बलदेव के धर्म-युव (सम १५३)। ३ पुन एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१)। ४ ४ नगर-विशेष (उप १०३१ टी)।

सुभद्दा वी [सुभद्दा] १ दूसरे बलदेव की माता (सम १५२)। २ प्रथम वी-रत्न, भरत चक्रवर्ती की अग्र-महिषी (सम १५२)। ३ बलि नामक इन्द्र के सोम आदि चारो लोक-पालो की एक-एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४)। ४ भूतानन्द आदि इन्द्रो के कालवाल नामक लोकपाल की एक-एक अग्र महिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४)। ५ प्रतिमा-विशेष, एक व्रत (ठा ४, १—पत्र २०४)। ६ राम के भाई भरत की पत्नी (पउम २८, १३६)। ७ राजा कोणिक की वी (श्रीप)। ८ राजा श्रेणिक की एक वी (अत २५)। ९ एक सती वी (पडि)। १० एक सार्धवाह-पत्नी (विपा १, २—पत्र २२)। ११ जम्बूवृक्ष-विशेष, जिससे यह द्वीप जवू द्वीप कहलाता है (इक)।

सुभय देखो सुभग (भग १२, ६—पत्र ५७८)।

सुभरिय वि [सुभृत] अच्छी तरह भरा हुआ, भरपूर, परिपूर्ण (जव)।

सुभा वी [शुभा] १ वैरोचन बलीन्द्र की एक अग्र महिषी (ठा ५, १—पत्र ३०२)। २

एक विजय-क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०)। ३ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ११)।

सुभासिय देखो सुहासिय (उत्त २०, ५१, दस १, १७)।

सुभासिर वि [सुभासिर] सुन्दर बोलने-वाला। वी १री (सुपा ५६८)।

सुभिक्ष देखो सुभिक्षल (जव, सार्ध ३६)।

सुभिष् पु [सुभृत्य] अच्छा नौकर (सुपा ४६५, हे ४, ३३४)।

सुभीम वि [सुभीम] अति भयंकर (सुर ७, २३३)।

सुभीसण पु [सुभीषण] रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३१)।

सुभूम पु [सुभूम] १ भारतवर्ष में उत्पन्न आठवाँ चक्रवर्ती राजा (ठा २, ४—पत्र ६६)। २ भारतवर्ष के भावी दूसरा कुलकर पुरुष (सम १५३)। भगवान् अमरनाथ का प्रथम श्रावक (विचार ३७८)।

सुभूषण पु [सुभूषण] विभीषण का एक पुत्र (पउम ६७, १६)।

सुभोगा वी [सुभोगा] अधोलोक में रहने वाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३७, इक)।

सुभोजन न [सुभोजन] व्रत विशेष, एकाशन तप (सबोध ५८)।

सुम न [सुम] पुष्प, फूल (सम्पत्त १६१)। १ सर पुं [शर] कामदेव (रभा)।

सुमइ पु [सुमति] १ पार्श्वनाथ भगवान् (सम ४३)। २ ऐरवत क्षेत्र में होनेवाला दसवाँ कुलकर पुरुष (सम १५३)। ३ एक जैन उपासक (महानि ४)। ४ वि शुभ बुद्धि वाला (गडड)। ५ पु एक नैमित्तिक विद्वान् (सुर ११, १३२)।

सुमगल पु [सुमङ्गल] ऐरवत वर्ष में होने वाले प्रथम जिनदेव (सम १५४)।

सुमगला वी [सुमङ्गला] १ भगवान् ऋषभ-देव की एक पत्नी (पउम ३, ११६)। २ सूर्यवंशीय राजा विजयसागर की पत्नी (पउम ५ ८२)।

सुमग्न पुं [सुमार्ग] अच्छा रास्ता (सुपा ३३०)।

१२ एक देव-विमान (दिवेन्द्र १४३)। १३ छन्द-विशेष (पिप)। °कर न [°कर] ? शैलेशी भवस्था की प्राप्ति। २ मुक्ति-मार्ग (सूत्रनि ११५)। °गइ छो [°गति] ? मुक्ति, मोक्ष। २ वि मुक्त, मुक्ति प्राप्त (राज)। ३ पु, भारतवर्ष में अतीत उत्स-पिणी-काल में उत्पन्न चौदहवें जिन-देव (पव ७)। °तिरथ न [°तीर्थ] काशी, बनारस (हे ४, ४४२)। °नदा छो [°नन्दा] ज्ञान-द-श्रावक की पत्नी (उवा)। °भूइ पु [°भूति] ? एक जैन महर्षि (कप्प)। २ बौद्धिक मत—दिगंबर जैन संप्रदाय का स्थापक एक मुनि (विसे २५५१)। °रत्ति छो [°रात्रि] फाल्गुन (गुजराती माघ) मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि (सट्टि ७८ टो)। °सेण पु [°सेन] ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक ग्रहण (सम १५३)।

सिखकर पु [शिवङ्कर] पांचवे केशव का पिता (पउम २०, १८२)।

सिखर } पु [शिवरु] ? घडा तैयार होने
सिखर } के पूर्व की एक भवस्था (विसे २३१६)। २ वेलन्धर नागराज का एक श्रावाम-पर्वत (इक)।

सिखा छो [शिखा] ? भगवान नेमिनाथ जी की माता का नाम (सम १५१)। २ सौधर्म देवलोक के इन्द्र की एक अग्र-महिषी (ठा ८—पत्र ४१६, णाया २—पत्र २५३)। ३ पनरहवे जिनदेव की प्रवर्तिनी—मुख्य साध्वी (पव ६)। ४ शृगाली, मादा सियार (अणु, वज्जा ११८)। ५ पार्वती (पात्र)।

सिखाणदा देखो सिख-नदा (उवा)।

सिखासि पु [शिखासिन्] भरतक्षेत्र में अतीत उत्सर्पिणी-काल में उत्पन्न बारहवें जिनदेव (पव ७)।

सिखिण देखो सुमिण (हे १, ४६, प्राप्र, रभा, कुमा, कप्प)।

सिखिया छो [शिखिका] सुखासन, पालकी, डोली (कप्प, श्रौप महा)।

सिखिर न [शिखिर] ? स्कन्धावार, सैन्य-निवास-स्थान, छावनी (कुमा)। २ सैन्य, सेना, लश्कर (सुपा ६)।

सिख्य सक [सीव्] सीना, साधना। सिखइ (पड, विसे १३६८)। भवि. सिख्वि-स्नामि (आचा १, ६, ३, १)।

सिख्य देखो सिख = शिव (प्राक २६, सति १७)।

सिख्विअ वि [स्यू] सिया हुआ (पव ६२)। सिख्विणी } छो [दे] सूची, सूई (दे ८,
सिख्वी } २६)।

सिस देखो सिलेस = रिलप्। सिसइ (पड)।

सिसिर न [दे] दधि, दही (दे ८, ३१, पात्र)।

सिसिर पु [शिशिर] ? ऋतु-विशेष, माघ तथा फागुन का महिना (उप ७२८ टो, हे ४, ३५७)। २ माघ माम का लोकोत्तर (सुज १०, १६)। ३ फागुन मास, 'सिसिरो फग्गुण-माहो' (पात्र)। ४ विजड, ठंडा, शीतल (पात्र, उप ७६८ टो)। ५ हलका (उप ७६८ टो)। ६ न हिम (उप ६८६ टो)। °किरण पु [°किरण] चन्द्रमा (धर्मवि ५)। °महीहर पु [°महीधर] हिमालय पर्वत (उप ६८६ टो)।

सिसिरली देखो सिसिरिली (राज)।

सिसु पुन [शिशु] बालक, बच्चा (सुपा ५८८, सम्मत १२२), 'सा खाइ पायमेकक सिस्सुण वीय पढमपहरे' (कुप्र १७३)।

°आल पु [°काल] वाल्य, बाल-काल (नाट—चेत ३७)। °नाग पु [°नाग] सुद्र कीट-विशेष, धूलस (उत्त ५, १०)। °पाल पु [°पाल] एक प्रसिद्ध राजा (णाय १, १६—पत्र २०८, सूत्र १, ३, १, १, उप ६४८ टो, कुप्र २५६)। °यव पुन [°यव] सुण-विशेष (पण १—पत्र ३३)। °वाल देखो °पाल (सूत्र १, ३, १, १ टो)।

सिस्स पुत्री [शिष्य] ? चेला, छात्र, विद्यार्थी (णाय १, १—पत्र ६०, सूत्रनि १२७)। छो °स्ता, °स्सिणी (मा ६, णाय १, १४—पत्र १८८)।

सिस्स देखो सीस = शीर्ष (सघ ५०)।

सिस्सिरिली छो [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ६८)।

सिह सक [स्पृह्] इच्छा करना, चाहना। सिहइ (हे ४, ३४, प्राक २३)। क सिह-णिज्ज (दे ८, ३१ टो)।

सिह पु [दे] भुजपरिसर्प की एक पति (सूत्र २, ३, २५)।

सिहइ पु [शिखण्ड] शिखा, चूला, चोरे (पात्र, अग्नि १५१)।

सिहइइल्ल पु [दे] ? बालक, शिशु। २ दही सर, दही की मलाई। मयूर, मोर (दे ८, ५४)।

सिहइहिल्ल पु [दे] बालक, बच्चा (पड)।

सिहडि वि [शिखण्डिन] ? शिखावाले (भत्त १००, श्रौप)। २ पु मयूर-पक्षी, मोर (पात्र, उप ७२८ टो)। ३ विष्णु (सुपा १४२)।

सिहण देखो सिहण (रभा)।

सिहर न [शिखर] ? पर्वत के ऊपर का भाग, शृङ्ग (पात्र, गउड, सुर ४, ५६, से ६, २८)। २ अग्रभाग (णाय १, ६)। ३ लगातार अठईस दिनों के उपवास (उपेय ५८)। °अण वि [°अण] शिखरों से श्रद्ध (से ६, १८)।

सिहरि पु [शिखरिन] ? पहाड़, पर्वत (पात्र, सुपा ४६)। २ वर्ष-पर पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ६६, सम १२, ४३)। ३ पुन कूट-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७०)। °वइ पु [°पति] हिमालय पर्वत (से ८, ६२)।

सिहरिणी } छो [दे शिखरिणी] मार्जिता
सिहरिणी } खाल-विशेष, दही-चीनी प्राति
से बनता एक तरह का मिष्ठु बाद्य (दे १, १५४, ८, ३३, पण २, ५—पत्र १४८, पव ४, पभा ३३, कस, सण)।

सिहली } छो [शिखा] ? चोटी, मस्तक
सिहा } पर के बालों का गुच्छा (पवा १०, ३२, पव १५३, पात्र, णाय १, ५—पत्र १०८, सवोष ३१)। २ अग्नि की ज्वाला (पात्र, कुमा, गउड)।

सिहाल वि [शिखावत्] ? शिखावाला, शिखा युक्त (गउड)।

सिहि पु [शिखिन] ? अग्नि, आग (ग १३, पात्र, सुपा ५१६)। २ मयूर, मोर (पात्र, हेका ४५, गा ५२, १७३)। ३ रावण का एक सुभट (पउम ५६, ३०)। ४ पर्वत। ५ ब्राह्मण। ६ मुर्गा। ७ कु

ली [तरङ्गिणी] गंगा नदी (सण) । तरु
 देखो अरु (सण) । ताण पु [त्राण]
 यवनवृष, सुलतान (ती १५) । टारु न
 [दारु] देवदार की लकड़ी (सु ६३३) ।
 धसी ली [धसिनी] विद्या विशेष (पउम
 ७, १३७) । धणु, धणुह न [वसुप्]
 इन्द्र-धनुष (कुमा, सण) । नई देखो णई
 (श्रु ७७) । नाह देखो णाह (सण) ।
 पहु पु [प्रसु] इन्द्र, देव-राज (सुपा ५०२,
 उप १४२ टी, सण) । पुर न [पुर] देव-
 पुरी, भ्रमरावती, स्वर्ग (पउम ५०, १, सण) ।
 पुरी ली [पुरी] वही अर्थ (पात्र, कुमा) ।
 पिअ पु [प्रिय] एक यज्ञ (अत) । वदी
 ली [वदी] देवी, देव-ली (से ६, ५०) ।
 भवण न [भवन्] देव प्रासाद (भग,
 सण) । मति पु [मन्त्रिन्] बृहस्पति
 (सुपा ३२६) । मंदिर न [मन्दिर] १
 देहरा, मन्दिर (कुम ४) । २ देव-विमान
 (सण) । मुणि पु [मुनि] नारद मुनि
 (पउम ६०, ८) । रमण न [रमण]
 रावण का एक वगीचा (पउम ४६, ३७) ।
 राग पु [राज] इन्द्र (सुपा ४५, सिरि
 २४) । रिउ पु [रिपु] दैत्य, दानव
 (पात्र) । लोअ पु [लोक] स्वर्ग (महा) ।
 लोइय वि [लौकिक] स्वर्गीय (पुष्क
 २५८) । लोग देखो लोअ (पउम ५२,
 १८) । वइ पु [पति] १ इन्द्र, देव-राज
 (पात्र, सुपा ४४, ४८, ८८, ४०२) । २
 इन्द्र नामक एक विद्याधर-नरेश (पउम ७,
 २७) । वणण पुन [वर्ण] एक देव विमान
 (सम १०) । वधू दतो वहु (वि ३८७) ।
 वनी ली [पत्नी] पुनाग वृक्ष (पात्र) ।
 वर पु [वर] उत्तम देव (भग) । वरिद
 पु [वरिन्द्र] इन्द्र, देव राज (आ २७) ।
 वहु ली [वधु] देवाङ्गना, देवी (कुमा) ।
 वारण पु [वारण] ऐरावण हत्ती (उप
 २११ टी) । समीय न [सगीत] नगर-
 विशेष (पउम ८, १८) । सरि ली
 [सरिन्] मागीरधी, गङ्गा नदी (गउड,
 उप ३६, सुपा ३३, २८६) । सिहरि पु
 [सिहरिन्] मेरु पर्वत (सण) । सुदर
 पु [सुन्दर] रमचक्राल-नगर का एक

विद्याधर-नरेश (पउम ८, ४१) । सुदरी
 ली [सुन्दरी] १ देव-वधु, देवाङ्गना (सुर
 ११, ११५, सुपा २००) । २ एक राज-
 पुत्री (सुर ११, १४३) । ३ एक राज-कुमारी
 (सिरि ५३) । सुरहि ली [सुरभि] काम-
 धेतु (रयण १३) । रोल पु [शैल] मेरु-
 पर्वत (सुपा १३०) । हतिथ पु [हरितन्]
 ऐरावण हाथी (से ६, ६) । उह न
 [युव] वज्र (पात्र) । दिव पु [दिव]
 एक श्रावक का नाम (उवा) । देवी ली
 [देवी] पश्चिम रुक्क पर रहनेवाली एक
 दिशा-कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६, इक) ।
 रि पु [रि] राक्षसवश का एक राजा,
 एक लका-पति (पउम ५, २६२) । ल्य
 पुन [लग] स्वर्ग (पात्र, सूत्र १, ६, ६,
 सुपा ५६६) । हिराय पु [धिराज]
 इन्द्र (उप १४२ टी) । हिव पु [धिप]
 इन्द्र (से १५, ५३) । हिवइ पु [धिपति]
 वही (सुपा ४६) ।

सुरइ ली [सुरति] सुख (पएह १, ४—पत्र
 ६८) ।

सुरइय वि [सुरचित] अच्छी तरह किया
 हुआ (पएह १, ४—पत्र ६८) ।

सुरगणा ली [सुराङ्गना] देव वधु (सुपा
 २४६) ।

सुरगा ली [सुरङ्गा] सुरग, जमीन के भीतर
 का मार्ग (उप ४ २६, महा, सुपा ४५४) ।

सुरगि पुली [दे] वृक्ष-विशेष, शिषु वृक्ष,
 सहिजना का गाछ (दे ८, ३७) ।

सुरजेट्ट पु [दे] वरुण देवता (दे ८, ३१) ।

सुरट्ट पु व [सुराट्ट] एक भारतीय देश जो
 आजकल काठियावाड के नाम से प्रसिद्ध है
 (आया १, १६—पत्र २०८, हे २, ३४,
 पिड २०२) ।

सुरणुचर वि [स्वनुचर] सुख से करने योग्य
 (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुरत } देखो सुरय (पउम १६, ८०, सकि
 सुरद } ६, प्राक १२) ।

सुरभि पुली [सुरभि] १ वसन्त ऋतु । २
 ली गौ, गैया (कुम्मा १४) । ३ वि सुगन्ध-
 युक्त, सुगन्धी (सम ६०, गा ८६१, कम्प,

कुम्मा १४) । ४ पुन, एक देव-विमान
 (देवेन्द्र १४०) । गंव वि [गन्व] सुगन्धी
 (आचा) । पुर न [पुर] नगर-विशेष
 (राज) । देखो सुरहि ।

सुरमणीअ वि [सुरमणीय] श्रयन्त मनोहर
 (सुर ३, ११२) ।

सुरम्म वि [सुरम्य] ऊपर देखो (श्रौप) ।

सुरय न [सुरत] मैथुन, ली-सभोग (सुर १३,
 २०, गा १५५, काप्र ११३) ।

सुरयण न [सुरत्त] सुन्दर रत्न (सुपा ३२७) ।

सुरयणा ली [सुरचना] सुन्दर रचना (सुगा
 ३२) ।

सुरस वि [सुरा] १ सुन्दर रसवाला (आया
 १, १२—पत्र १७४) । २ न, तुण विशेष
 (दे १, ५४) । लया ली [लता] तुलसी-
 लता (दे ५, १४) ।

सुरसुर पु [सुरसुर] ज्वनि-विशेष, 'सुर सुर'
 श्रावाज (श्रौष २८९) ।

सुरसुर अक [सुरसुराय] 'सुर सुर'
 श्रावाज करना । वहु सुरसुरत (गा ७४) ।

सुरह संक [सुरभय] सुगन्धित करना ।
 सुरहेइ (कुमा, प्रासु ६) ।

सुरह पुन [सौरभ] सुन्दर गन्ध, खूबसूरत,
 'गधोन्वित्र सुरहो मालईइ मलण पुण
 विणासो' (भत्त १२१) ।

सुरह पु [सुरय] साकेतपुर का एक राजा
 (महा) ।

सुरहि पुली [सुरभि] १ वसन्त ऋतु (रमा,
 पात्र, कम्पू) । २ वैश्र मास (गा १०००) ।
 ३ वृक्ष-विशेष, शतद्रु वृक्ष (आचा २, १, ८,
 ३) । ४ ली गौ, गैया (रयण १३, वमवि
 ६५, पात्र, प्रासु १६८) । ५ न, नाम कर्म
 का एक भेद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर
 में सुगन्ध उत्पन्न होती है (कम्म १, ४१) ।

६ वि, सुगन्ध युक्त (उवा, कुमा, गा ३१७,
 ३६६, सुर ३, ३६, हे २, १५५) । देखो
 सुरभि ।

सुरा ली [सुरा] मदिरा, वाहु (उवा) । रस
 पु [रस] समुद्र-विशेष (वीव) ।

सुरिद पु [सुरेन्द्र] १ इन्द्र, देव-स्वामी (सुर
 २, १५३, गउड, सुपा ४४) । २ एक

सीत देखो शीअ = शीत (ठा ३, ४—पत्र १६१)।

सीता देखो सीआ = शीता, सीता (ठा ८—पत्र ४३६, ६—पत्र ४५४)।

सीतालीस देखो सीआलीस (सुज्ज २, ३—पत्र ५१)।

सीतोद° देखो सीओअ° (ठा २, ३—पत्र ७२)।

सीतोदा } देखो सीओआ (पण्ड २, ४—
सीतोया } पत्र १३०, सम ८४)।

सीदण न [सदन] शैबिल्य, प्रमत्तता (पत्रा १२, ४६)।

सीधु देखो सीहु (णाय १, १६—पत्र २०६ उवा)।

सीभर देखो सीअर (प्राप्र, कुमा, हे १, १८४, पङ्)।

सीभर वि [दे] समान, तुल्य (अणु १३१)।

सीमआ स्त्री [सीमन्] १ मर्यादा। २ अवधि। ३ स्थिति। ४ क्षेत्र। ५ वेला, समय। ६ अण्डकोष, पोता (पङ्)। देखो सीमा।

सीमर पु [सीमर] १ इस अवसरिणी काल मे उत्पन्न एक कुलकर पुरुष का नाम (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत क्षेत्र के भावी द्वितीय कुलकर (सम १५३)। ३ वि. मर्यादा-कर्ता (सूत्र २, १, १३)।

सीमत पु [सीमन्त] १ बालो मे बनाई हुई रेखा-विशेष (से ६, २०, गउड, उप ७२८ टी)। २ अपर काय (गउड ८५)। ३ ग्राम से लगी हुई भूमि का अन्त, सीमा, गाँव का पर्यन्त भाग (गउड २७३, २७७, उप ७२८ टी)। ४ सीमा का अन्त, हड, 'एसो चिय सीमतो गुणाण दूरं फुरताण' (गउड)।

सीमंत पु [सीमान्त] १ सीमा का अन्त भाग, गाँव का पर्यन्त भाग (गउड ३६७, ४०५)। २ हड (गउड ८८६)।

सीमत सक [दे. सीमान्त्य] देचना। संक सीमतिऊण (राज)।

सीमतग } पु [सीमन्तक] प्रथम नरक-भूमि
सीमतय } का एक नरका-वास, नरक-स्थान (निवृ १, ठा ३, १—पत्र १२६, सम ६८)।

°पम पु [°प्रम] सीमन्तक नरकावास को पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २०)। °मज्झिम पु [°मध्यम] सीमन्तक की उत्तर तरफ स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २०)। °वसिट्ट पु [°वशिष्ट] सीमन्तक की दक्षिण दिशा मे स्थित एक नरकावास (देवेन्द्र २१)। °वत पु [°वर्त] सीमन्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकावास (देवेन्द्र २१)।

सीमतय न [दे] सीमत—वालो की रेखा-विशेष मे पहना जाता अलकार-विशेष (दे ८, ३५)।

सीमतिअ वि [सीमन्तित] खण्डित, छिन्न (पाम)।

सीमतिणी स्त्री [सीमन्तिनी] स्त्री, नारी, महिला (पाम, उा ७२८ टी, सम्मत १११, सुपा ७)।

सीमधर पु [सीमन्धर] १ भारतवर्ष मे उत्पन्न एक कुलकर पुरुष (पउम ३, ५३)। २ ऐरवत वर्ष का एक भावी कुलकर (सम १५३)। ३ पूर्व-विदेह मे वर्तमान एक अर्हव देव (काल)। ४ एक जैन मुनि, जो भगवान् सुमतिनाथ के पूर्व जन्म मे युव थे (पउम २०, १७)। ५ भगवान् शीतलनाथ जी का मुख्य श्रावक (विचार ३७८)। ६ वि. मर्यादा को धारण करनेवाला, मर्यादा का पालक (सूत्र २, १, १३)।

सीमा स्त्री [सीमा] देखो सीमआ (पाम, गा १६८, ७५१, काल, गउड)। °गार पु [°कार] जलजन्तु-विशेष, ग्राह का एक भेद (पण्ड १, १—पत्र ७)। °धर वि [°धर] मर्यादा धारक (पडि, हे ३, १३४)। °ल वि [°ल] सीमा के पास का, सीमा के निकट-वर्ती, 'सीमाला नरवइणो सव्वे ते सेवमावन्ना' (सुपा २२२, ३५२, ४६३, धर्मावि ५६)।

सीर पुंन [सीर] हल, जिससे लेत जाते हैं (पउम ११३, ३२, कुमा, पडि), 'संसयवसु-हासीरो' (धर्मावि १६)। °धारि पुं [°धारिन्] बलदेव, बलभद्र, राम (पउम २०, १६३)। °पाणि पुं [°पाणि] वही (दे २, २३, कुमा)। °सीमत पु [°सीमन्त] हल से फाडी हुई जमीन की रेखा (दे)।

सीरि पुं [सीरिन्] बलभद्र, बलदेव (पाम)। सीरिअ वि [दे] भिन्न, 'सीरिओ भिओ' (पाम)।

सील सक [शीलय] १ अग्न्यास करना, श्राद्ध डालना। २ पालन करना, 'सोवेवा सीलयुजल' (हित १६), 'सव्वसीव सीलह पव्वज्जगहणेण' (आ १६)। देखो सीलाव।

सील न [शील] १ चित्त का समाधान, 'सील चित्तसमाहाणनकण्ण भएण एण' (उप ५६७ टी)। २ ब्रह्मचर्य (प्रासू २२, ५१, १५४, १६६, आ १६, हित १६)। ३ प्रकृति, स्वभाव, 'सील पर्यई' (पाम), 'कलहसील' (कुमा)। ४ सदाचार, चारित्र्य, उत्तम वर्तन (कुमा, पत्रा १४, १, पण्ड २, १—पत्र ६६)। ५ चरित्र, वर्तन (ह २, १८४)। ६ अहिंसा (पण्ड २, १—पत्र ६६)। °इ पु [°जित्] क्षत्रिय परिव्राजक का एक भेद (भौप)। °ड्ड वि [°ड्ड] शील-पूरण (भोष ७८४)। °परिखर पु [°परिगृह] १ चारित्र्य-स्थान। २ अहिंसा (पण्ड २, १—पत्र ६६)। °मठ, °व वि [°वत्] शील-युक्त (आचा, भोष ७७५, आ ३६)। °व्यय न [°व्रत] अणुव्रत, जैन श्रावक के पालने योग्य अहिंसा आदि पांच व्रत (भग)। °सालि वि [°शालिन्] शील से शोभनेवाला (सुपा २४०)।

सीलाव सक [शीलय] तदुद्दस्त करना कर्म सीलयप (वव १)।

सीलुट्ट न [दे] तपुस, खीरा, ककडी (दे ३५, पाम)।

सीव सक [सीव] सीना, सिलाई करना साधना। भवि सीविस्सामि (आचा)। सड् सीविऊण (स ३५०)।

सीवणा स्त्री [सीवना] सीना, सिलाई (व पु २६८)।

सीवणी स्त्री [दे] सूची, सूई (गउड)। देवं सिचिण्णी।

सीवण्णी } स्त्री [श्रीपर्णी] बुद्ध-विशेष (श्री
सीवन्नी } ४४६ टी, पिड ८१, ८२, उ १०३१ टी)।

सीविअ देखो सिन्विअ (से १४, २८, दे ४, ७, भोचमा ३१५)।

सुवन्न न [सुवर्ण] १ सोना (स ५०, प्रासू २, कुप्र १, कुमा) । २ वि सुन्दर अक्षरवाला (कुप्र १) । ३ कुमार पु [कुमार] भवनपति देवो की एक जाति (भग, सम ८३) । ४ कूलप्पवाय पु [कूलप्रपात] एक हृद जहाँ से सुवर्णकूला नदी बहती है (ठा २, ३—पत्र ७२) । ५ गार पु [कार] सोनी (णाय १, ८—पत्र १४०, उप पृ ३५३) । ६ जूहिया बी [यूथिका] लता-विशेष (परण १७—पत्र ५२६) । ७ गार देखो गार (सुपा ५६५) । देखो सुवण्ण = सुवर्ण ।
सुवन्न वि [सौवर्ण] सोने का बना हुआ (कुप्र ४) ।
सुवन्नालुगा बी [दे] दत्तन करने का पात्र—लोटा आदि (कुप्र १४०) ।
सुवप्प पु [सुवप्र] एक विजय क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०) ।
सुवयण न [सुवचन] सुन्दर वचन (भग) ।
सुवर } (अप) देखो सुमर । सुवरह, सुवैरिह
सुवैर } (भवि, पि २५१) ।
सुवहु देखो सुवहु (प्राप) ।
सुवाय पुन [सुवात] एक देव-विमान (सम १०) ।
सुवास पु [सुवर्ष] १ सुन्दर वृष्टि (उप ८४६) । २ छन्द विशेष (पिग) ।
सुवासणी देखो सुवासिणी (धर्मवि १२३) ।
सुवासव पु [सुवासव] एक राज-कुमार (विगा २, ४) ।
सुवासिणी बी [दे सुवासिनी] जिसका पति जोरित हो वह बी (सिदि १५६) ।
सुवाहा अ [स्याहा] देवता को हविष आदि अर्पण का सूचक अव्यय (सिदि १६७) ।
सुविअज्जिअ वि [सुव्यजित] विशेष रूप से उपाजित (तदु ५६) ।
सुविअद्ध वि [सुविद्धव] अत्यन्त चतुर (नाट—रत्ना ६) ।
सुविइय वि [सुविदित] अच्छी तरह ज्ञात (उव; सुपा ४०४) ।
सुविउ वि [सुविउ] अच्छा जानकार (धा २८) ।

सुविउल वि [सुविपुल] अति विशाल (उव) ।
सुविक्रम पु [सुविक्रम] भूतानन्द नामक इन्द्र के हस्ति सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक) ।
सुविकखाय वि [सुविक्यात] सुप्रसिद्ध (सुर ६, ६४) ।
सुविगा बी [सुकिगा, शुकी] मैना (उप ६७३, ६७५) ।
सुविज्जा बी [सुविद्या] उत्तम विद्या (प्रासू ५३) ।
सुविण देखो सुमिण (सुर ३, १०१, महा, रमा) । २ न्नु वि [ज्ञ] स्वप्न-शास्त्र का जानकार (उप पृ ११६, सुर १०, ६८) ।
सुविणट्ट वि [सुविनट्ट] बिलकुल नष्ट (गा ७४०) ।
सुविणिच्छिय वि [सुविनिश्चित] अच्छी तरह निर्यात (उव) ।
सुविणिम्मिय वि [सुविनिर्मित] अच्छी तरह बनाया हुआ (णाय १, १—पत्र १२) ।
सुविणीय वि [सुविनीत] १ अतिशय दूर किया हुआ (उत्त १, ४७) । २ अत्यन्त विनय-युक्त (दस ६, २, ६) ।
सुवित्त न [सुवृत्त] १ अत्यन्त गोलाकार । २ सदाचार, अच्छा आचरण (सुर १, २१) ।
सुवित्थड वि [सुविस्तृत] अति विस्तारयुक्त (अजि ४०, प्रासू १२८, द्र ६८) ।
सुवित्थिन्न वि [सुविस्तीर्ण] ऊपर देखो (सुर १, ४५, १२, १) ।
सुविधि देखो सुविहि (सम ४३) ।
सुविभज्ज वि [सुविभज] जिसका विभाग अनायास हो सके वह (ठा ५, १—पत्र २६६) ।
सुविभत्त वि [सुविभक्त] अच्छी तरह विभक्त (णाय १, १ टी—पत्र ५, औप, भग) ।
सुविग्धिअ वि [सुविग्धित] अतिशय आश्चर्यान्वित (उत्त २०, १३) ।
सुवियक्खण वि [सुविक्खण] अति चतुर (सुपा १५०) ।
सुवियाण न [सुविज्ञान] अच्छा ज्ञान, सुन्दर जानकारी, पहिचान (सहि १६) ।

सुविर वि [स्वप्त्] स्वप्न-शील, सोने की आदतवाला (ओधभा १३३, दे ८ ३६) ।
सुविरइय वि [सुविराचत] अच्छी तरह घटित, सुघटित (उवा २०६) ।
सुविराइय वि [सुविराजित] सुशोभित (सुपा ३१०) ।
सुविराइय वि [सुविराजित] अतिशय विराहित (उव) ।
सुविलास वि [सुविलास] सुन्दर विलासवाला (सुर ३, ११४) ।
सुविवेइय वि [सुविवेचित] सम्यग् विवेचित (उव) ।
सुविवेच सक [सुवि + विच्] अच्छी तरह व्याख्या करना । सक सुविवेचित (२य) (धर्मस १३११) ।
सुविसट्ट वि [सुविकसित] अच्छी तरह विकसित (सुर ३, १११) ।
सुविसत्थ पु [दे] व्यभिचारी पुरुष (वजा ६८) ।
सुविसाय पुन [सुविसात] एक देव-विमान (सम ३८) ।
सुविहाणा बी [सुविधाना] विद्या-विशेष (पउम ७, १३७) ।
सुविहि पु [सुविधि] १ नववाँ जिन भगवान् (सम ८५, पडि) । २ पुत्री सुन्दर अनुष्ठान (परह २, ५ टी—पत्र १४६) । ३ न. रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक यान, 'चक्रमण हवइ सुविहि-नामिण' (पउम ८०, ४) ।
सुविहिअ वि [सुविहित] सुन्दर आचरणवाला, सदाचारी (सम १२५, भास १, उव, स १३०, सार्ध ११५, द्र ३२) ।
सुवीर पु [सुवीर] १ यदुराज का एक पौत्र (अत) । २ पुन एक देव-विमान (सम १२) ।
सुवीसत्थ वि [सुविश्चस्त] अच्छी तरह विश्वासप्राप्त (सुर ६, १५६, सुपा २११) ।
सुवुण्णा बी [दे] सकेत, इशारा (दे ८, ३७) ।
सुवुरिस देखो सुपुरिस (गडड) ।
सुवे अ [श्वस] आगामी कल (हे २, ११४, चड, कुमा) ।
सुवेल पु [सुवेल] १ पर्वत-विशेष (से ८, ८०) । २ न. नगर-विशेष (पउम ५४, ४३) ।

देखना (महा) । १ सण न [सिन] आसन-विशेष, सिंहाकार आसन, सिंहाङ्कित आसन, राजासन (भग) । देखो सिंह ।
 सीह वि [सैह] सिंह-संबन्धी । बी. ० हा (गाथा १, १—पत्र ३१) ।
 ०सीह पुं [सिह] श्रेष्ठ, उत्तम (सम १, पडि) ।
 सीहंडय पु [दे] मत्स्य, मछली (दे ८, २८) ।
 सीहणही लो [दे] १ वृक्ष-विशेष, करौंदी का गाछ । २ करौंदी का फल (दे ८, ३५) ।
 सीहपुर वि [सैहपुर] सिंहपुर-सबन्धी (पउम ५५, ५३) ।
 सीहर देखो सीअर (हे १, १८४, कुमा) ।
 सीहरय पुं [दे] आसार, जोर की वृष्टि (दे ८, १२) ।
 सीहल देखो सिंहल (परह १, १—पत्र १४, इक, पउम ६६, ५५) ।
 सीहलय पु [दे] वज्र आदि को घूष देने का यन्त्र (दे ८, ३४) ।
 सीहलिआ लो [दे] १ शिखा, चोटी । २ नवमालिका, नवारी का गाछ (दे ८, ५५) ।
 सीहलिपासग पुन [दे] ऊन का बना हुआ ककण, जो वेणी बांधने के काम में आता है (सूअ १, ४, २, ११) ।
 सीही लो [सिही] लो-सिह, सिंह की मादा (नाट) ।
 सीहु पुन [सीधु] १ मद्य, दाह । २ मद्य-विशेष (परह २, ५—पत्र १५०, दे १, ४६, पात्र, गा ५४५, मा ४३) ।
 सु अ [सु] इन अर्थों का सूचक अव्यय—१ प्रशंसा, आधा (विसे ३४४३, सूअनि ८८) । २ अतिशय, अत्यन्तता (श्रु १६) । ३ समीचीनता (सट्टि १६) । ४ अतिशय योग्यता (पिग) । ५ पूजा । ६ कष्ट, मुश्किली । ७ अनुमति । ८ समृद्धि (षड् १२२, १२३, १३५) । ९ अनायास (ठा ५, १—पत्र २६६) ।
 सुअ अक [स्वप्] सोना । सुअइ (हे ४, १४६, प्राक ६६, पि ४६७, उव), सुयानि (निसा १), "खणपि मा सुय वीसथो" (प्रात्महि ६) । कर्म सुअइ (हे २, १७६) ।

वक्र सुयत, सुयमाण (सुर ५, २१६, सुपा ५०५, महा ३७, १२, पि ४६७) ।
 हैक. सोड (पि ४६७) । क. सोएवा (अप) (हे ४, ४३८) ।
 सुअ सक [श्रु] सुनना । वक्र सुअत (घात्वा १५६) ।
 सुअ पु [सुत] पुत्र, लडका (सुर १, १०, प्रासू ८६, कुमा, उव) ।
 सुअ पु [शुक] १ पक्षि-विशेष, तोता (परह १, १—पत्र ८, उत्त ३४, ७, सुपा ३१) । २ रावण का मन्त्री (से १२, ६३) । ३ रावणाधीन एक सामंत राजा (पउम ८, १३३) । ४ एक परिव्राजक (गाथा १, ५—पत्र १०५) । ५ एक अनाय देश (पउम २७, ७) ।
 सुअ वि [श्रुत] १ सुना हुआ, आकल्पित (हे १, २०६, भग, ठा १—पत्र ६) । २ न ज्ञान-विशेष, शब्द-ज्ञान, शास्त्र-ज्ञान (विसे ७६, ८१, ८५, ८६, ९४, १०४, १०५, एदि, अणु) । ३ शब्द, ध्वनि, आवाज । ४ क्षमोपशम, श्रुतज्ञान के आचरक कर्मों का नाश-विशेष । ५ आत्मा, जीव, 'त तेण तमो तम्मि व सुण्हेइ सो वा सुअ तेण' (विसे ८१) । ६ आगम, शास्त्र, सिद्धान्त (भग, एदि, अणु, से ४, २७, कम्म ४ ११, १४, २१, बृह १, जी ८) । ७ अव्ययन, स्वाध्याय (सम ५१, से ४, २७) । ८ श्रवण (प्राक ७०) । ९ केवल्लि पु [केवल्लिन्] चौबह पूर्व-अर्थो का जानकार मुनि (राज) । १० स्वध, स्वध पु [स्वन्ध] १ अग-अन्ध का अव्ययन-समूहात्मक महान् अश-खरड (सूअ २, ७, ४०, विपा १, १—पत्र ३) । २ बारह अग-अर्थो का समूह । ३ बारहवाँ अग-अर्थ, दृष्टिवाद (राज) । ४ नाण देखो नाण (ठा २, १ टो—पत्र ५१) । ५ नाण वि [ज्ञानिन्] शास्त्र-ज्ञान-वपन्न, शास्त्रो का जानकार (भग) । ६ निस्सिय न [निश्चित] मति-ज्ञान का एक भेद (एदि) । ७ तिहि लो [तिथि] शुक्ल पंचमी तिथि (रमण २) । ८ थेर पु [स्थविर] तृतीय और चतुर्थ अग-अर्थो का जानकार मुनि (ठा ३, २) । ९ देवया लो [देवता] जैन

शास्त्रो की अविद्यानी देवी (पडि) । १० देवी लो [देवी] वही (सुपा १, कुमा) । ११ धम पुं [धर्म] १ जैन अग-अर्थ (ठा २, १—पत्र ५२) । २ शास्त्र ज्ञान (आवम) । ३ आगमो का अव्ययन, शास्त्राभ्यास (एदि) । ४ धर वि [धर] शास्त्र (सुपा ६५२, परह २, १—पत्र ६६) । ५ नाण पु [ज्ञान] शास्त्रज्ञान (ठा २, १—पत्र ४६, भग) । ६ नाणि देखो नाणि (व १०) । ७ निस्सिय देखो निस्सिय (अ २, १—पत्र ४६) । ८ पचमी लो [पञ्चम] कार्तिक मास की शुक्ल पाचवी तिथि (भवि) । ९ पुण्य वि [पूर्व] पहले सुना हुआ (अ १४२ टो) । १० सागर पु [सागर] एक क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५५) ।
 सुअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (भग) ।
 सुअध पु [सुगन्] १ अच्छी गन्ध, बूध (गा १४) । २ वि सुगन्धी (से ८, ६१, सुर १, २८) ।
 सुअधि वि [सुगन्धि] सुन्दर गन्धवाला (१, ६२, दे ८) । देखो सुगंधि ।
 सुअक्खाय वि [स्वाख्यात] अच्छी तरह कहा हुआ (सूअ २, १, १५, १८, २०, २६) ।
 सुअच्छ वि [स्वच्छ] निर्मल, विशुद्ध (भवि) ।
 सुअण पु [सुजण] सज्जन, भला आत्मी (गा २२४, पात्र, प्रासू ८, ४०, सुर २, ४६, गजड) ।
 सुअण न [स्वपण] सोना, शयन (सूक ३१) ।
 सुअणा लो [दे] अतिमुक्तक, वृक्ष विशेष (दे ८, ३८) ।
 सुअणु वि [सुतनु] १ सुन्दर शरीरवाला । २ लो नारी, महिला (गा २६६, ३८५, ५६६, पि ३४६, गजड) ।
 सुअण्ण देखो सुवण्ण (प्राक ३०) ।
 सुअम वि [सुगम] सुबोध (प्राक ११) ।
 सुअर वि [सुकर] जो अनायास से हो सके वह, सरल (भमि ६६) ।
 सुअर पुं [शुकर] सूअर, बरगह (विपा १, ७—पत्र ७५, नाट—मृच्छ २२२) ।

सुवन्न न [सुवर्ण] १ सोना (स ५०, प्रासू २, कुप्र १, कुमा) । २ वि सुन्दर अक्षरवाला (कुप्र १) । ३ कुमार पु [कुमार] भवनपति देवों की एक जाति (भग, सम ८३) । ४ कूलपवाय पुं [कूलप्रपात] एक हृद जहाँ से सुवर्णकूला नदी बहती है (ठा २, ३—पत्र ७२) । ५ गार पु [कार] सोनी (गाया १, ८—पत्र १४०, उप पृ ३५३) । ६ जूहिया ब्री [जूथिका] लता-विशेष (पण १७—पत्र ५२६) । ७ गार देखो गार (सुपा ५६५) । देखो सुवर्ण = सुवर्ण ।

सुवन्न वि [सौवर्ण] सोने का बना हुआ (कुप्र ४) ।

सुवन्नलुगा ब्री [दे] क्त्वन करने का पात्र—लोटा आदि (कुप्र १४०) ।

सुवन्नप पु [सुवन्न] एक विजय क्षेत्र (ठा २, ३—पत्र ८०) ।

सुवयण न [सुवचन] सुन्दर वचन (भग) ।

सुवर } (अप) देखो सुमर । सुवरह, सुवैरहि सुवैर } (भवि, पि २५१) ।

सुवट्ट देखो सुवहु (प्राप) ।

सुवाय पुन [सुवात] एक देव-विमान (सम १०) ।

सुवास पु [सुवर्ष] १ सुन्दर वृष्टि (उप ८४६) । २ छन्द विशेष (पिग) ।

सुवासणी देखो सुवासिणी (धर्मवि १२३) ।

सुवासव पु [सुवासव] एक राज-कुमार (विपा २, ४) ।

सुवासिणी ब्री [दे सुवासिनी] जिसका पति जीवित हो वह ब्री (सिदि १५६) ।

सुवाहा भ [स्वाहा] देवता को हविष आदि अर्पण का सूचक अव्यय (सिदि १२७) ।

सुविअञ्जअ वि [सुव्यञ्जित] विशेष रूप से उपाजित (तदु ५६) ।

सुविअद्ध वि [सुविअद्ध] अत्यन्त चतुर (नाट—रत्ना ६) ।

सुवदय वि [सुविदित] अच्छी तरह जात (उव, सुपा ४०४) ।

सुविउ वि [सुविउ] अच्छा जानकार (आ २८) ।

सुविउल वि [सुविपुल] अति विशाल (उव) ।

सुविक्रम पु [सुविक्रम] भूतानन्द नामक इन्द्र के हस्ति सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक) ।

सुविकखाय वि [सुविखाय] सुप्रसिद्ध (सुर ६, ६४) ।

सुविगा ब्री [सुकिगा, शुकी] मैना (उप ६७३, ६७५) ।

सुविज्ञा ब्री [सुविद्या] उत्तम विद्या (प्रासू ५३) ।

सुविण देखो सुमिण (सुर ३, १०१, महा-रमा) । २ न्नु वि [ज्ञ] स्वप्न-शास्त्र का जानकार (उप पृ ११६, सुर १०, ६८) ।

सुविणट्ट वि [सुविणट्ट] बिलकुल नष्ट (गा ७४०) ।

सुविणिच्छिय वि [सुविनिच्छित] अच्छी तरह निर्णीत (उव) ।

सुविणिम्मिय वि [सुविनिर्मित] अच्छी तरह बनाया हुआ (गाया १, १—पत्र १२) ।

सुविणीय वि [सुविनीत] १ अतिशय दूर क्रिया हुआ (उत्त १, ४७) । २ अत्यन्त विनय-युक्त (दस ६, २, ६) ।

सुवित्त न [सुवृत्त] १ अत्यन्त गोलाकार । २ सदाचार, अच्छा आचरण (सुर १, २१) ।

सुवित्थड वि [सुविरत्त] अति विस्तारयुक्त (अजि ४०, प्रासू १२८, द्र ६८) ।

सुवित्थन्न वि [सुविस्तीर्ण] ऊपर देखो (सुर १, ४५, १२, १) ।

सुविवि देखो सुविहि (सम ४३) ।

सुविभज्ज वि [सुविभज] जिसका विभाग अनायाम हो सके वह (ठा ५, १—पत्र २६६) ।

सुविभत्त वि [सुविभक्त] अच्छी तरह विभक्त (गाया १, १ टी—पत्र ५, श्रौप, भग) ।

सुविम्हिअ वि [सुविस्मित] अतिशय आश्चर्यान्वित (उत्त २०, १३) ।

सुवियक्खण वि [सुविक्खण] अति चतुर (सुपा १५०) ।

सुवियाण न [सुविज्ञान] अच्छा ज्ञान, सुन्दर जानकारी, पडिताई (सहि १६) ।

सुविर वि [स्वप्न] स्वप्न-शील, सोने की आदतवाला (श्रीधमा १३३, दे ८ ३६) ।

सुविरइय वि [सुविराचत] अच्छी तरह घटित, सुघटित (उवा २०६) ।

सुविराइय वि [सुविराजित] सुशोभित (सुपा ३१०) ।

सुविराइय वि [सुविरावित] अतिशय विराहित (उव) ।

सुविल्लास वि [सुविल्लास] सुन्दर विलासनाला (सुर ३, ११४) ।

सुविवेइय वि [सुविवेचित] सम्यग् विवेचित (उव) ।

सुविवेच सक [सुवि + विच्] अच्छी तरह व्याख्या करना । सक. सुविवेचित (?य) (धर्मस १३११) ।

सुविसट्ट वि [सुविकसित] अच्छी तरह विकसित (सुर ३, १११) ।

सुविसत्थ पु [दे] व्यभिचारी पुरुष (वजा ६८) ।

सुविसाय पुन [सुविसात] एक देव-विमान (सम ३८) ।

सुविहाणा ब्री [सुविधाना] विद्या-विशेष (पचम ७, १३७) ।

सुविहि पु [सुविधि] १ नववाँ जिन भगवान् (सम ८५, पडि) । २ पुत्री सुन्दर अनुष्ठान (पण २, ५ टी—पत्र १४६) । ३ न. रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक यान, 'चक्रमणं हवह सुविहि-नामण' (पचम ८०, ४) ।

सुविहिअ वि [सुविहित] सुन्दर आचरण-वाला, सदाचारी (सम १२५, भास १, उव, स १३०, सावें ११५, द्र ३२) ।

सुवीर पु [सुवीर] १ यदुराज का एक पौत्र (अत) । २ पुन एक देव-विमान (सम १२) ।

सुवीसत्थ वि [सुविश्वस्त] अच्छी तरह विश्वासप्राप्त (सुर ६, १५६, सुपा २११) ।

सुवुण्णा ब्री [दे] सकेत, इशारा (दे ८, ३७) ।

सुवुरिस देखो सुपुरिस (गडड) ।

सुवे अ [श्वस] आगामी कल (हे २, ११४, चड, कुमा) ।

सुवेल पु [सुवेल] १ पर्वत-विशेष (से ८, ८०) । २ न. नगर-विशेष (पचम ५४, ४३) ।

३, १२०, वि १८)। ३ रावण की एक पत्नी (पउम ७४, ६)। ४ छन्द-विशेष (पिंग)। ५ मनोहरा, शोमना, 'सुदरी ए देवाणुप्पिया गोसालस्स मखलिपुत्तस्स धम्म-परणत्ती' (उवा)।

सुदेर } न [सौन्दर्य] सुन्दरता, शरीर
सुदेरिम } का मनोहरपन (प्राप्र, हे १, ५७,
कुमा, सुपा ४, ६२२, धम्म ११ टी)।

सुव न [शुम्ब] १ तृण-विशेष (ठा ४, ४—
पत्र २७१, सुल १०, १)। २ तृण विशेष
की बनी हुई डोरी—रसी (विसे १५४)।

सुभ पु [शुम्भ] १ एक गृहस्थ जो शुभा
नामक इन्द्राणी का पूर्व-जन्म में पिता था
(शाया २, २—पत्र २५१)। २ दानव-
विशेष (पि ३६०, ३६७ ए) 'वडेलथ न
[शिवतसक] शुम्भा देवी का एक भवन
(शाया २, २)। 'सरी ब्री [श्री] शुम्भा
देवी की पूर्व-जन्मीय माता (शाया २, २)।

सुभा वी [शुम्भा] बलि नामक इंद्र की एक
पटरानी (शाया २, २—पत्र २५१)।

सुसुमा वी [सुसुमा] धन सार्थवाह की कन्या
का नाम (शाया १, १८—पत्र २३५)।

सुसुमार पु [सुसुमार, शिशुमार] १ जल-
चर प्राणी की एक जाति, सूँस, सोस या सूसर
(शाया १, ४, पि ११७)। २ ब्रह्म-विशेष (भत
६६)। ३ पर्वत-विशेष। ४ न एक अरण्य
(स ८६)। देखो सुसुमार।

सुक देखो सुअ = शुक्र (सुपा २३४)। 'पपाहा
बी [प्रभा] भगवान् सुविधिनाथ की दीक्षा-
शिविका (विचार १२६)।

सुकइ पु [सुकवि] अच्छा कवि (गा ५००,
६००, महा)।

सुकठ वि [सुकण्ठ] १ सुन्दर कण्ठवाला।
२ पु एक वरिष्क-पुत्र (श्रा ६६)। ३ एक
चोर-सेनापति (महा)।

सुकच्छ पु [सुकच्छ] विजय-क्षेत्र-विशेष
(ठा २, ३—पत्र ८०, इक)। 'कूड पुन
[कूट] शिखर-विशेष (इक, राज)।

सुकड देखो सुफ्य (चप ५८)।

सुकण्ड पु [सुकण्ड] एक राज-पुत्र (निर
० १, वि ५२)।

सुकण्डा वी [सुकण्डा] राजा श्रेणिक की
एक पत्नी (अत २५)।

सुकद देखो सुक्य (सखि ६)।

सुकम्माण वि [सुकम्म] अच्छा कर्म करने-
वाला (हे ३, ५६, षड्)।

सुकय न [सुकृत] १ पुण्य (परह १, २—
पत्र २८, पात्र)। २ उपकार (से १, ४६)।
३ वि. अच्छी तरह निर्मित (राज)।

'जाणुअ, °णु, °णुअ वि [°ज्ञ] सुकृत
का जानकार, उपकार की कदर करनेवाला
(प्राक १८, उप ७६८ टी)।

सुकयय वि [सुकृतार्थ] अत्यन्त कृतकृत्य
(प्रासू १५५)।

सुनर देखो सुगर (आचा १, ६, १, ८)।

सुगल पु [सुगल] राजा श्रेणिक का एक
पुत्र (निर १, १)।

सुगली वी [सुगली] राजा श्रेणिक की
एक पत्नी (अत २५)।

सुकिअ देखो सुक्य (हे ४, ३२६, भवि)।

सुकिह वि [सुकृष्ट] अच्छी तरह जोता हुआ
(पउम ३, ४५)।

सुकिह्ठि पु [सुकृष्टि] एक देव-विमान (सम
६)।

सुकिदि वि [सुकृति] १ पुण्य-शाली। २
सत्कर्म-कारी (रभा)।

सुकिल } देखा सुक = सुकल (हे २, १०६,
सुकिल } पि १३६)।

सुकुमार } वि [सुकुमार] १ अति कोमल।
सुकुमाल } २ सुन्दर कुमार अवस्थावाला
(महा, हे १, १७१, पि १२३, १६०)।

सुकुमालिअ वि [दे] सुघटित, सुन्दर बना
हुआ (दे ८, ४०)।

सुकुल पुन [सुकुल] उत्तम कुल (भवि)।

सुकुसुभ न [सुकुसुभ] १ सुन्दर फूल। २
वि सुन्दर फूलवाला (हे १, १७७, कुमा)।

सुकुसुमिय वि [सुकुसुमित] जिसकी अच्छी
तरह फूल आया हो वह (सुपा ५६८)।

सुकुसल पु [सुकुशाल] १ ऐरवत-वर्ष के
एक भावी जिनदेव (सम १५४, पव ७)।
२ एक जैन मुनि (पउम २२, ३६)।

सुकुसला वी [सुकुशाला] एक राज-कन्या
(उप १०३१ टी)।

सुक अक [शुप्] सुखना। सुकइ (वि
३०३२, पव ७०), सुकति (दे ८, १८
टी)।

सुक वि [शुक] सुखा हुआ (हे २, ४,
शाया १, ६—पत्र ११४, उवा, पिड २७६,
सुर ३, ६५, १०, २२३, धाला १५६)।

सुक न [शुक] १ चुगी, बेचने की बलु पा
लगता राज-कर (शाया १, १—पत्र ३७,
कुमा, श्रा १४, समत १५६)। २ क्रोध
विशेष। ३ वर पक्ष से कन्या पक्षवाली को
लेने योग्य धन। ४ स्त्री को सभाम के लिए
दिया जाता धन। ५ मूल्य (हे २ ११)।
देखो सुक।

सुक पु [शुक] १ ग्रह-विशेष (ठा २, ३—
पत्र ७८, सम ३६, वज्जा १००)। २ पु
एक देव-विमान (सम ३३, देवेन्द्र १४३)।
३ न वीर्य, शरीरस्थ धातु विशेष (ठा ३,
३—पत्र १४४, धर्मस ६८४, वज्जा १००)।

सुक पु [शुक] १ वणं विशेष, सफेद रंग।
२ सफेद वणंमाला श्वेत (हे २, १६,
कुमा, सम २६)। ३ न शुभ ध्यान विशेष
(श्रीप)। ४ वि. जिसका संसार अर्ध पुण्य-
परावर्त काल से कम रह गया हो वह (पचा
१, २)। 'उभाण, भाण न [°ध्या]।
शुभ ध्यान-विशेष (सम ६, सुपा ३७, अत)।
'पक्ख पु [°पक्ष] १ जिसने चन्द्र की कला
क्रमशः बढ़ती है वह आवा महीना (सम
२६, कुमा)। २ हंस पक्षी। ३ काक, कोआ।
४ बगला, बक पक्षी (हे २, १०६)।
'पविस्वय वि [°पाक्षिक] वह आत्मा जिसका
संसार अर्ध पुण्य-परावर्त से कम रह गया हो
(ठा २, २—पत्र ५६)। 'लेस देतो 'लेस
(भग)। 'लेसा देतो 'लेसा (सम ११,
ठा १—पत्र २८)। 'लेस वि [°लेश्या]
शुक्ल लेश्यावाला (परण १०—पत्र ५११)।
'लेसा वी [°लेश्या] आत्मा का प्रथम
साय-विशेष, शुभतम आत्म-परिणाम (परह
२, ४—पत्र १३०)।

सुकड } देखो सुक्य (सम १२५, पउम
सुक्य } १५, १००)।

सुकव सक [शोधय] सुखाना। वह-
सुकवेमाण (शाया १, ६—पत्र ११५)।

सुसिलिह वि [सुसिलिह] मुसगत, प्रति
सबद (सुर १०, ८२, पचा १८, २३)।

सुसिस्स पु [सुशिष्य] उत्तम चेला (उप
पृ ४७१)।

सुसीअ वि [सुसीत] प्रति शीतल (कुमा)।

सुसीम न [सुसीम] नगर-विशेष (उप
७२८ टी)।

सुसीमा स्त्री [सुसीमा] ? भगवान् पद्मप्रभ
की माता (सम १५१)। २ कृष्ण वासुदेव
की एक पत्नी (अत १५)। ३ वत्स नामक
विजय-क्षेत्र की एक राजधानी (ठा २,
३—पत्र ८०)।

सुसील न [सुसील] ? उत्तम स्वभाव (पञ्चम
१४, ४४)। २ वि उत्तम स्वभाववाला,
सदाचारी (प्रासू ८)। °वत् वि [°वत्]
सदाचारी (पञ्चम १४, ४४, प्रासू ३६)।

सुसु पु [शिश्] बच्चा, बालक। °मार पु
[°मार] जलचर प्राणी की एक जाति,
महिषाकार मत्स्य-विशेष (पि ११७)।
°मारिया स्त्री [°मारिका] वाद्य-विशेष
(राय ४६)। देखो सुसुमार।

सुसुज्ज पुन [सुसूर्य] एक देव-विमान (सम
१५)।

सुसुमार पु [सुसुमार] जलचर जन्तु की एक
जाति (जी २०)। देखो सुसु-मार।

सुसुयध वि [सुसुगन्ध] ? अत्यन्त सुगन्धी
(पञ्चम ६, ४१, गउड)। २ पु. अत्यन्त
सुगन्ध (गउड)।

सुसुर देखो ससुर (धर्मवि ११४, तिरि
३३८, ३८५, ३४७, ६८८)।

सुसुहकर पु [सुसुभङ्कर] छन्द का एक भेद
(पिग)।

सुसूर पुन [सुसूर] एक देव-विमान (सम
१०)।

सुसेण पु [सुसेण] ? सुग्रीव का धसुर (सि
४, ११, १३, ८४)। २ एक मन्त्री (विपा
१, ४—पत्र ५८)। ३ भरत चक्रवर्ती का
मन्त्री (राज)।

सुसेणा स्त्री [सुसेणा] एक बड़ी नदी (ठा
५, ३—पत्र ३५१)।

सुसोह वि [सुशोभ] अच्छी शोभावाला
(सुपा २७५)।

सुसोहिय वि [सुशोभित] शोभा-सपन्न,
समलकृत (उप ७२८ टी)।

सुस्स अक [शुष्] सुखना। सुस्से (सूअ
१, २, १, १६)। वक्क सुस्सत (स १६६)।

सुस्समण पु [सुश्रमण] उत्तम साधु (उप)।

सुस्सर वि [सुस्वर] सुन्दर आवाजवाला
(सुपा २८६)। देखो सुसर।

सुस्सरा स्त्री [सुस्वरा] गीतरति तथा गीतयश
नाम के गन्धर्वों की एक एक अग्रमहिषी का
नाम (ठा ४, १—पत्र २४, इक)।

सुस्सार वि [सुसार] सार युक्त (भवि)।

सुस्सावग } देखो सुसावग (उप, धा १२)।
सुस्सावय }

सुस्सील देखो सुसील (सुपा ११०, ५०८)।

सुस्सुय देखो सूसुअ (राज)।

सुस्सुयाय अक [सुसुकाय, सूत्कारय]
सु सु आवाज करना, सूत्कार करना। सक्क
सुस्सुयाइत्ता (उत्त २७, ७)।

सुस्सू स्त्री [श्वसू] सासू (बृह २)।

सुस्सूअ सक [शुश्रूप्] सेवा करना।
सुस्सूसइ (उप, महा)। वक्क सुस्सूसत,
सुस्सूसमाण (कुलक ३४, भग, औप)।
हेक्क सुस्सूसिट्ट (शौ) (मा ३६)।

सुस्सूसअ वि [शुश्रूफ] सेवा करनेवाला
(कप्प)।

सुस्सूसण न [शुश्रूषण] सेवा, शुश्रूषा (कुप्र
२४७, रत्न २१)।

सुस्सूसणया } स्त्री [शुश्रूषणा] ऊपर देखो
सुस्सूसणा } (उत्त २६, १, औप, णाया
१, १३—पत्र १७८)।

सुस्सूसा स्त्री [शुश्रूषा] ऊपर देखो (सुपा
१२७)।

सुह देवो सोह = शुभ्। सुहइ (वज्जा १४,
पिग)।

सुह सक [सुखय] सुखी करना। सुहइ
(पिग), सुहेवि (शौ) (अभि ८६)।

सुह देखो सुभ (हे ३, २६, ३०, कुमा,
सुपा ३६०, कम्म १, ५०)। °अ वि [°अ]

मगलकारी (कुमा)। °कम्मि वि [°कम्मिक]
पुण्यशाली (भवि)। °काम वि [°काम]
मङ्गल की चाहवाला (सुपा ३२६)। °गर
वि [°कर] मङ्गल-जनक (कुमा)। °णामा
स्त्री [°णामा] पक्ष की पाँचवी, दसवी तथा
पनरहवी रात्रि तिथि (सुज्ज १०, १५)।
°त्थि वि [°त्थिन्] ? शुभेच्छक (भग)।
२ शुभ अर्थवाला (णाया १, १—पत्र ७४)।
°द देखो °अ (कुमा)।

सुह न [सुख] ? आनन्द, चैन, मजा। २
आराम, शान्ति (ठा २, १—पत्र ४७, ३,
१—पत्र ११४, भग, स्वप्न २३, प्रासू
१३३, हे १, १७७, कुमा)। ३ निर्वाण,
मुक्ति। ४ वि. जितेन्द्रिय (विसे ३४४३,
३४४४)। ५ सुख-प्रद, सुख-जनक (णाया
१, १२—पत्र १७८, आचा, कम्म १,
५१)। ६ अनुकूल (णाया १, १२)। ७
सुखी (हे ३, १६)। °अ वि [°अ] सुख-
दायक (सुर २, ६५, सुपा ११२, कुमा)।
°इत्तअ वि [°वत्] सुखी (पि ६००)।
°कर वि [°कर] सुख-जनक (हे १, १७७)।
°कामि वि [°कामिन्] सुखामिलायी (ओव
११६)। °त्थि वि [°त्थिन्] वही अर्थ
(आचा)। °द वि [°द] सुख-दाता (वै
१०३, कुमा)। °दाय वि [°दाय] वही
(पञ्चम १०३, १६२)। °फस वि [°फस]
कोमल (पाप्र)। °यर देखो °कर (हे १,
१७७, कुमा, सुपा ३)। °सम्मा स्त्री
[°सन्ध्या] सुख-जनक सायकाल (कप्प)।
°विह वि [°विह] ? सुख-जनक (आ २८,
उप; स ६७)। २ पुन एक पर्वत-शिखर (ठा
२, ३—पत्र ८०)। °सण न [°सण]
आसन-विशेष, पालकी (सुर २, ६०, सुपा
२७८, कप्प)। °सिया स्त्री [°सिका]
सुख से बैठना, सुखी स्थिति (प्रासू ८५)।

सुहउत्थिआ स्त्री [दे] इती (दे ८, ६)।

सुहकर वि [सुखकर] सुख-कारक (तिरि
३६, कुमा)।

सुहकर वि [शुभकर] ? शुभकारक (कुमा)।
२ पु. एक वणिक् का नाम (उप ५०७ टी)।

सुहभर वि [सुखभर] सुखी (गउड)।

सुचोइअ वि [सुचोदित] प्रेरित (उत्त १, ४४) ।

सुच वि [शोच्य] अफसोस करने योग्य, 'सुच्चा ते जियलाए जिण्णवयण जे नरा न याणति' (धर्मवि १७) ।

सुच्चा देखो सुण = ध्रु ।

सुजपिय न [सुजल्पित] आशीर्वाद (णाया १, १—पत्र ३६) ।

सुजड पुं [सुजट] एक विद्याधर-नरेश (पउम १०, २०) ।

सुजस पु [सुयशस्] १ एक जिनदेव का नाम (उप १००:१ टी) । २ वि यशस्वी (था १६) ।

सुजसा बी [सुयशस्] १ चौदहवें जिन-देव की माता (सम १५१) । २ एक राज-पत्नी (उप ६८६ टी) ।

सुजह वि [सुहान] सुख से जिसका त्याग हो सके वह (उत्त ८, ६) ।

सुजाइ वि [सुजाति] प्रशस्त जातिवाला, जात्य (महा) ।

सुजाण वि [सुज] सयाना, अच्छा जानकार (सिरि ७६१, प्रासू १३, सुपा ५८८) ।

सुजाय वि [सुजात] १ सुन्दर जाति में उत्पन्न, कुलीन, खानदानो (उप ७२८ टी) । २ अच्छी तरह उत्पन्न, सुन्दर रूप से उत्पन्न (ठा ४, २—पत्र २०८, श्रोप, जीव ३, ४, उवा) । ३ न सुन्दर जन्म (आत्र) । ४ पु एक राज-कुमार (विपा २, ३) । ५ पुन एक एक देव-विमान (देवेन्द्र २७२) ।

सुजाया बी [सुजाता] १ कालवाल आदि लोकपालो की पटरानियो के नाम (ठा ४, १—पत्र २०४, इक) । २ राजा श्रेणिक को एक पत्नी (अत २५) ।

सुजिडा बी [सुज्येठा] एक महासती राज-कुमारी, जो चेटकराज की पुत्री थी (पडि) ।

सुजुत्ति बी [सुयुक्ति] सुन्दर युक्ति (सुपा १११) ।

सुजेडा देखो सुजिडा (राज) ।

सुजोसिअ वि [सुजुष्ट] अच्छी तरह सेवित (सुअ १, २, २, २६) ।

सुजोसिअ वि [सुजोपित] सुष्ठु कपित, सम्यग् विनाशित (सुअ १, २, २, २६) ।

सुज्ज पु [सूर्य] १ सूरज, रवि । २ प्राक का पेड । ३ दैत्य-विशेष (हे २, ६४, प्राप्र) ।

४ पुन एक देव-विमान (सम १५) । ५ कत पुन [कान्त] एक देव-विमान (सम १५) ।

६ उभय पुन [ध्यज] देव-विमान-विशेष (सम १५) । ७ उपभ पुन [प्रभ] एक देव-विमान (सम १५) । ८ लेस पुन [लेय] एक देव-विमान (सम १५) । ९ वण पुन [वर्ण] देव-विमान विशेष (सम १५) ।

१० सिंग पुन [शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १५) । ११ सिट्ट पुन [सृष्ट] एक देव-विमान का नाम (सम १५) । १२ सिरी बी [श्री] एक ब्राह्मण-कन्या (महानि २) । १३ सिव पु [शिव] एक ब्राह्मण का नाम (महानि २) ।

१४ हास पु [हास] तलवार की एक उत्तम जाति (पउम ४३, १६) । १५ भ न [भ] वैताल्य की उत्तम-श्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर (इक) । १६ वत्त पुन [वर्त] एक देव-विमान (सम १५) । देखो 'सूर, सूरिअ = सूर, सूर्य' ।

सुज्जाण वि [सुज्जान] सुजान, सयाना, सुज (षड्, पिग) ।

सुज्जुत्तरवडिसग पुन [सूर्योत्तरावतसक] एक देव-विमान (सम १५) ।

सुज्जक प्रक [शुध्] शुद्ध होना । सुज्जक (महा) । सक सुज्जिऊण (सम्यक्त्वो ८) ।

सुज्जत वि [दृश्यमान] सुकता, दीख पडता, मात्सु होता, 'अन्नपि ज अमुज्जत । भुजत-एण रत्ति' (पउम १०३, २५) ।

सुज्जगया बी [सोधना] शुद्धि (उप ८०४) ।

सुज्जय न [दे] १ रौप्य, चांदी । २ पु रजक, घोषो (दे ८, ५६) ।

सुज्जरय पु [दे] रजक, घोषो (दे ८, ३६) ।

सुज्जवण न [शोधन] शुद्धि, प्रक्षालन (उप ६८५) ।

सुज्जमाइ वि [सुध्यायिन] शुभ ध्यान करने-वाला (संबोध ५२) ।

सुज्जमाइय वि [सुध्यात] अच्छी तरह चिन्तित (राज) ।

सुद्धिअ वि [सुस्थित] १ सम्यक् स्थित (कण्) । २ पु. लवण समुद्र का अधिकतम

देव (णाया १, १६—पत्र २१७) । ३ आर्यसुहस्ति आचार्य का शिष्य एक जैन महर्षि (कण्) ।

सुट्टु, अ [सुट्टु] १ अच्छा, शोभन, सुन्दर सुट्टु (आचा, भग, स्वन् २३, सुर २, १७८) । २ प्रतिशय, अत्यन्त (सुर ४, २४ प्रासू १३७) ।

सुठिअ देखो सुठिअ (पाप्र) ।

सुठ सक [स्मृ] याद करना । सुठ (शक ६३) ।

सुठिअ वि [दे] १ शान्त, थका हुआ (दे ८, ३६, गउड, सुपा १७६, ५३०, सुर १०, २१८) । २ सकुचित अगवाला (महा) ।

सुण सक [श्रु] सुनना । सुणइ, सुणेइ (हे ५, ५८, २४१, महा) । सुणउ, सुणेउ, सुणअ (हे ३, १५८) । भवि, सुणिअइ, सुणिस्सामो, सोच्छिइ, सोच्छिअइ, सोच्छि, सोच्छिअ, सोच्छिअमि, सोच्छिअहिमि, सोच्छिअस्सामि, सोच्छिअमि (पि ५३१, श्रौप, हे ३, १७२) । कर्म सुणिअइ, सुव्वइ, सुव्वए, सुम्मइ, सुणीअइ (हे ४, २४२, कुमा, महा, पि ५३६) । वक्क सुणत, सुणित, सुणमाण, सुणेमाण (हेका १०५, सुर ११, ३७, पि ५६१, विपा १, १, सुर ३, ७६) । क्वड्, सुम्मत, सुव्वत, सुव्वमाण (सुर ११, १६६, ३, ११, से २, १०, ६, ४६) । सक, सुणिअ, सुणिऊण, सुणिआ, सुणेआ, सोऊण, सोउआण, सोउआण, सोउ, सोआ, सोअ, सुआ (अमि ११६, पड्, हे ४, २४१, पि ५८२, हे ४, २३७, २, १४६, कुमा, हे २, १५, पि ११४, २४६, ५८७) । हेऊ सोउ (कुमा) । क सुणेअव्व, सोअव्व (अग, पण्ह १, १—पत्र ५, से २, १०, गउड, अजि ३८) ।

सुणइ देखो सुणय ।

सुणद पु [सुनन्द] १ एक राजपि (वम्म) । २ भगवान् वासुपुज्य को प्रथम भिक्षा-दाता गृहस्थ (सम १५१) । ३ पुन एक देव विमान (सम २६) । देखो सुनद ।

सुणदा बी [सुनन्दा] १ भगवान् पार्श्वनाथ को मुख्य श्राविका (कण्) । २ तृतीय चक्रवर्ती

सूअ पु [शूक] धान्य आदि का लोक्षण अग्र भाग (गउड, गा ५६८) ।

सूअ वि [शून] फुला हुआ, सूजनवाला, 'सूय-मुह सूयहृत्थ सूयपाम' (विपा १, ७—पत्र ७३) ।

सूअ पु [सूप] दाल (पव ६१, टी, उवा, परह २, ३—१२३, सुपा ५७) । गार, थार, र पु [कार] रसोइया (स १७, कुप्र ६६, ३७, श्रावक ६३ टी) । रिंगी बी [कारिणी] रसोई बनानेवाली बी (पउम ७७, १०६) ।

सूअ देखो सुत्त = सूत्र । गड पुन [कून] दूसरा जैन अग्र-ग्रन्थ, 'आयारो सूयगडो' (सूअ २, १, २७, सम ?) ।

सूअ वि [सूचक] १ सूचना करनेवाला सूअक (वेणी ४५, आ ११, सुर २, सूअग २२६) । २ पु पिशुन, खल, दुर्जन (परह १, २—पत्र २८) । ३ शुभ दूत, जासूस (प्राप्र) ।

सूअग न [सूतक] सूतक, जनन और मरण सूअय की अग्रुद्धि (पचा १३, ३८, वव १) ।

सूअण न [सूचन] सूचना (उव, सुर २, २३३) ।

सूअर पु [शकर] सूअर, बराह (उवा, विपा १, ३—पत्र ५३, प्रथी ७०) । वल्ल पु [वह] अन्नन्तकाय वनस्पति विशेष (पव ४, आ २०) ।

सूअरिअ वि [दे] यन्त्र-पीडित (दे ८, ४१ टी) ।

सूअरिया बी [दे] यन्त्र-पीडना (सुर १३, सूअरी १५७, दे ८, ४१) ।

सूअल न [दे] किशोर, धान्य का लोक्षण अग्र भाग (दे ८, ३८) ।

सूआ बी [सूचा] सूचन, सूचना (पिड ४३७, उपप ५०, सूअनि २) । कर वि [कर] सूचक (उप ७६८ टी) ।

सूआ बी [सूति] प्रसव, प्रसूति, जन्म सूइ (पउम २६, ८५, १, ६१, सुपा २३) । न्म न [कर्मन्] प्रसव-क्रिया (सुर १०, १, सुपा ४०) । हर न [गृह] प्रसूति-गृह (पउम २६, ८५) ।

सूइ बी [सूचि] देखो सूई (आचा, सम १४६, राय २७) ।

सूइअ वि [सूचित] जिसकी सूचना की गई हो वह (महा) । २ उक्त, कथित (पाअ) । ३ व्यजनादि-युक्त (खाद्य) (दस ५, १, ६८) ।

सूइअ वि [सूत] प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह, व्याधी, 'साएण सूइअ गावि' (दस ५, १, १२) ।

सूइअ पु [सूचिक] दरजी (कुप्र ४०१) ।

सूइअ पु [दे] चण्डाल (दे ८, ३६) ।

सूइय न [सुभ] निद्रा, 'शेज अत्थरिऊण अलियसूइय काऊण अच्छति' (महा) ।

सूइय वि [दे सूय, सूपिक] भीजा हुआ (खाद्य), 'अवि सूइय वा सुक वा' (आचा) ।

सूइया बी [सूतिका] प्रसूति-कर्म करनेवाली बी (सम्मत्त १४५) ।

सूई बी [सूची] कपडा सीने की सलाई, सूई (परह १, ३—पत्र ४४, गा ३६४, ५०२) । २ परिमाण-विशेष, एक अणुल लम्बी एक प्रदेशवाली श्रेणी (अगु १५८) । ३ दो तस्तो के जोड़ने के काम में आती एक तरह की पतली कील (राय २७, ८२) । फलय न [फलक] तख्ते का वह हिस्सा, जहाँ सूची-कीलक लगाया गया हो (राय ८२) । सुह पु [मुख] १ पक्षि-विशेष (परह १, १—पत्र ८) । २ द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (परह १—पत्र ४४) । ३ न जहाँ सूची-कीलक तख्ते का छेद कर भीतर घुसता है उसके समीप की जगह (राय ८२) ।

सूई बी [दे] मंजरी (दे ८, ४१) ।

सूई देखो सूइ = सूति (सुपा २६५) ।

सूइ सक [भञ्ज, सूइ] भांगना, तोड़ना, विनाश करना । सूइइ (हे ४, १०६) । कर्म, सूडिजतु (परह १, २—पत्र २६) ।

सूइण न [सूदन] १ भजन, विनाश (गउड) । २ वि, विनाशक (पव २७१) ।

सूण वि [शून] सूजा हुआ, सूजन से फुला हुआ (पउम १०३, १४८, गा ६३६, स ३७१, ४८०) ।

सूण बी [सूना] वध-स्थान (निर १, १, सूणा) सा ३४, कुप्र २७६) । वइ पु [पति] कसाई (दे २, ७०) ।

सूणिय वि [शूनिक] १ सूजन का रोगवाला, जिसका शरीर सूज गया हो वह । २ न, सूजन (आचा) ।

सूण पु [सून] पुत्र, लडका (कुप्र ३१६) ।

सूतक देखो सूअय = सूतक (वव १) ।

सूप देखो सूअ = सूप (परह २, ५—पत्र १४८) ।

सूभग देखो सूभग, 'सूभग दुभगनाम सूसर तह दूसर चैव' (धर्मस ६२०, श्रावक २३) ।

सूभग देखो सोभग (पिड ५०२) ।

सूमाल देखो सुउमाल (परह १, ४—पत्र ७८, णाया १, १—पत्र ४७, १, १६—पत्र २००, कण, सुर १३, ११८, कुप्र ५५) ।

सूर सक [भञ्ज] तोड़ना, भांगना । सूरइ (हे ४, १०६) ।

सूर वि [शूर] १ पराक्रमी, वीर (ठा ४, ३—पत्र २३७, कण, सुपा २२२, ४१२, प्रासु ७१) । २ पु एक राजा (सुपा ६२२) । ३ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४३) ।

सेण पु [सेन] एक भारतीय देश, जिसकी प्राचीन राजधानी मथुरा थी (विचार ४६, पउम ६८, ६६, ती १४, विक्र ६६, सत्त ६७ टी) । २ ऐरवत वष के एक भावी जिन-देव (सम १५४) । ३ एक जैनाचार्य (उप ७२८ टी) । ४ भगवान् आदिनाथ का एक पुत्र (ती १४) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूर पु [सूर, सूर्य] १ सूर्य, रवि (हे २, ६४, ठा २, ३—पत्र ८५, उव, सुपा २२२, ६२२, कण, कुमा) । २ सतरहवें जिन-देव का पिता (सम १५१) । ३ इक्ष्वाकु-वंश का एक राजा (पउम ५, ६) । ४ एक लका-पति (पउम ५, २६३) । ५ एक द्वीप का नाम (सुज्ज १६) । ६ एक राजा (सुपा ५५६) । ७ छन्द का एक भेद (पिण) न पुन एक देव-विमान (सम १०) । अत, कत पु [कान्त] १ मणि-विशेष (से ६, ५०, पउम ३, ७५, परह १—पत्र २६, उत ७७) । २ पुन, एक देव-विमान (देवेन्द्र १४४, सम १०) । कूड पुन [कूट] एक देव-विमान—देव-भवन (सम १०) । उक्तय पुन [ध्वज] एक देव-विमान (सम १०) ।

सुस्थिय देखो सुद्धिअ (सुपा ६३२) ।

सुस्थिर वि [सुस्थिर] अतिशय स्थिर, अति-
निश्चल (प्राक् १६, सुपा ३४८, कुमा) ।

सुधेव वि [सुस्तोक] अत्यल्प (पउम ८,
१५२) ।

सुदती स्त्री [सुदती] सुन्दर दाँतवाली (उप
७६८ टी) ।

सुदसग पु [सुदर्शन] १ भगवान् अरनाथ
के पिता का नाम (सम १५१) । २ तीसरे
वासुदेव तथा बलदेव के धर्म-गुरु (सम १५३) ।
३ भारतवर्ष में होनेवाला पाचवाँ बलदेव
(सम १५४) । ४ घरगोन्द्र के हस्ति-सैन्य का
अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२) । ५ एक
अन्तर्द्व मुनि (अत १८) । ६ मेरु पर्वत
(सूत्र १, ६, ६, सुज्ज ५) । ७ एक विख्यात
श्रेष्ठी (पडि, वि १६) । ८ देव-विशेष (ठा
२, ३—पत्र ७६) । ९ विष्णु का चक्र
(सुपा ३१०) । १० भगवान् अरनाथ का
पूर्वभवीय नाम । ११ भगवान् पार्श्वनाथ का
पूर्वजन्मोय नाम (सम १५१) । १२ पुन.
एक देव-विमान (देवेन्द्र १३६) । १३ वि
जिसका दर्शन सुन्दर हो वह (वि १६) ।
१४ न. पश्चिम रुचक पर्वत का एक शिखर
(ठा ८—पत्र ४३६) ।

सुदंसणा स्त्री [सुदर्शना] १ जम्बू नामक
एक वृक्ष, जिससे यह द्वीप जद्द्वीप कहलाता
है (सम १३, पएह २, ४—पत्र १३०) । २
भगवान् महावीर की ज्येष्ठ बहिन का नाम
(आचा २, १५, ३, कप्प) । ३ धरणा आदि
इन्द्रो के कालवाल आदि लोकपालो की एक-
एक अग्रमहिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । ४
काल तथा महाकाल-नामक पिशाचेन्द्रो की
अग्रमहिषियों के नाम (ठा ४, १—पत्र
२०४) । ५ भगवान् ऋषभदेव की दोक्षा-
शिविका (विचार १२६) । ६ चतुर्थ बलदेव
की माता (सम १५२) ।

सुदक्खिन्न वि [सुदाक्षिण्य] वाक्षिण्यवाला
(धम्म १५, स ३१) ।

सुदच्छ वि [सुदक्ष] अति चतुर (सुपा
५१७) ।

सुदरिसण देखो सुदसण (हे २, १०५,
पउम २०, १७६, १६०, पव १६४, इक) ।

सुदाम पुं [सुदाम] अतीत उत्सर्पणी-काल
में उत्पन्न भारतवर्ष का दूसरा कुलकर पुरुष
(सम १५०) ।

सुदारु न [सुदारु] सुन्दर काष्ठ (गउड) ।

सुदारुण पु [दे] चञ्चल (दे ८, ३६) ।

सुदिट्ठ वि [सुट्ठ] सम्यग् विलोकित (गा
२२५) ।

सुदिप्प अक [सु+दीप्] अतिशय
चमकना । वहु. सुदिप्पत (सुपा ३११) ।

सुदीह } वि [सुदीर्घ] अत्यन्त लम्बा (सुर
सुदीहर } २, १२५, ३, १६८) । °कालीय
वि [°कालिक] सुदीर्घ-काल-सम्बन्धी (सुर
१५, २२०) । °दसि वि [°दशिन्] ।
परिणाम का विचार कर कार्य करनेवाला
(सं ३२) ।

सुदुक्कर वि [सुदुक्कर] जो अत्यन्त दुःख से
किया जा सके वह, अति मुश्किल (उप पु
१६०) ।

सुदुक्खत्त वि [सुदुखात्] अति दुःख से
पीडित (सुर ७, ११) ।

सुदुक्खिअ वि [सुदुखित] अत्यन्त दुःखित
(सुपा ३०४) ।

सुदुग्ग वि [सुदुर्ग] जहाँ दुःख से गमन
किया जा सके वह (पउम ३०, ४६) ।

सुदुच्चय वि [सुदुस्त्यज] मुश्किल से जिसका
त्याग हो सके वह, सहावो वि सुदुच्चयो
(आ १२) ।

सुदुत्तार वि [सुदुस्तार] कठिनाता से जिसको
पार किया जा सके वह (भौप, पि ३०७) ।

सुदुद्धर वि [सुदुर्धर] अति दुःख से जो
धारण किया जा सके वह (आ ४६, प्रासू
४८) ।

सुदुन्निवार वि [सुदुनिवार] अति कठिनाई
से जिसका निवारण किया जा सके वह
(सुपा ६४) ।

सुदुप्पिच्छ वि [सुदुदर्श] अतिशय मुश्किल
से देखने योग्य (सुर १२, १६६) ।

सुदुब्भेअ वि [सुदुर्भेद] अति दुःख से
जिसका भेदन हो सके वह (उप २५३ टी) ।

सुदुम्मणिआ स्त्री [दे] लपवती स्त्री (दे
८, ४०) ।

सुदुल्लह वि [सुदुर्लभ] अत्यन्त दुर्लभ (सुपा)
सुदूसह वि [सुदु सह] अत्यन्त दुःख से
सहन करने योग्य (सुर ६, १५८) ।

सुदेव पु [सुदेव] उत्तम देव (सुपा २५६) ।

सुद् पु [शूद्र] मनुष्य की अचम जाति, क्षुण्ण
वर्ण (विपा १, ५—पत्र ६१, पउम ३,
११७, श्रु १३) ।

सुद्दय पु [शूद्रक] एक राजा का नाम (मोह
१०५, १०६) ।

सुद्धिणी (अप) स्त्री [शूद्रा] शूद्रजातीय स्त्री
(पिग) ।

सुद्ध पु [दे] गोपाल, ग्वाल (दे ८, ३३) ।

सुद्ध वि [शुद्ध] १ शुक्ल, ज्वल, बहसह
सुद्धपचमिरतीए सोहण लर्ग (सुर ४
१०१, कुप्र ७०, पचा ६, ३४) । २ पवित्र ।

३ निर्दोष । ४ केवल, किसी से अतिश्रित । ५
न सँवा वृत्त-नमक । ६ मरिच, मिर्चा (हे, १,
२६०) । ७ लगातार १८ दिनों के उपवास

(सवोष ५८) । ८ पु छन्द-विशेष (पिग) ।

°गंधारा स्त्री [°गन्धारा] गन्धार-ग्राम की

एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र ३६३) । °दत्त
पु [°दन्त] १ भारतवर्ष में होनेवाले चौथे

जिनदेव (सम १५४) । २ एक अनुत्तर-पामी

जैन मुनि (अनु २) । ३ एक अन्तर्द्वीप । ४

उसमे रहनेवाली एक मनुष्य-जाति (इक) ।

°पक्ख पु [°पक्ष] शुक्ल पक्ष (पउम ६
२७) । °प्प पु [°त्सम्] पवित्र आत्म
(कप्प) । °प्पवेस वि [°प्रवेश्य] पवि-

और प्रवेश के लिए उचित (भग) । °प्पवेध
वि [°त्समवेश्य] पवित्र तथा वैशोनिव

(भग) । °वाय पु [°वात] वायु विशेष,
मन्द पवन (जी ७) । °विण्ड न [°विट्ट]
उष्ण जल (कप्प) । °सज्जा स्त्री [°पट्टा]
पट्टा ग्राम की एक मूर्च्छना (ठा ७—पत्र
३६३) ।

सुद्धत पु [सुद्धान्त] अन्त पुर (उप ७६८
टी, कुप्र ५४, कुम्मा २६, कस) ।

सुद्धवाल वि [दे] शुद्ध-पूत, शुद्ध और पवित्र
(दे ८, ३८) ।

सुद्धि स्त्री [शुद्धि] १ शुद्धता, निर्दोषता,
निर्मलता (सम्मत २३०, कुमा) । २ पत्र,

सूख वि [सुश्रुत] १ अच्छी तरह सुना हुआ । २ अच्छी तरह ज्ञात (वज्जा १०६) ।

३ पु. वैद्यक ग्रन्थ-विशेष (वज्जा १०६) ।

सूख } देखो सुभग (सक्ति २०, हे १, सूख } ११३, १६२) ।

से° देखो सेअ = श्वेत । °वड पु [°पट] श्वेताम्बर जैन (सम्मत १३७) ।

से अ [दे] इन अर्थों का सूचक अर्थव्यय— १ वाक्य का उपन्यास । २ प्रश्न (भग १, १, उवा) । ३ प्रस्तुत वस्तु का परामर्श (उत्त २, ४०, ज १) । ४ अनन्तरता (ठा १०—पत्र ४६५) ।

से } अक [शी] सोना । सेइ, सेअइ सेअ } (षड्) ।

सेअ सक [सिच्] सीचना । सेअइ (हे ४, ६६) ।

सेअ पु [दे] गणपति, गणेश (दे ८, ४२) ।

सेअ पु [सेय] १ कर्म, काँदी, पक (सूअ २, १, २, णाया १, १—पत्र ६३) । २ एक अथम मनुष्य-जाति, 'चडाला मुट्टिया सेया जे अन्ने पावकम्मिणो' (ठा ७—पत्र ३६३) ।

सेअ पु [स्वेद] पसीना (गा २७८, दे ४, ४६, कुमा) ।

सेअ पु [सेक] संचन, सीचना (मे ६५, गा ७६६, हेका ६६, ग्रमि ३३) ।

सेअ न [श्रेयस्] १ शुभ, कल्याण (भग) । २ धर्म । ३ मुक्ति, मोक्ष (हे १, ३२) । ४ वि अति प्रशस्त, अतिशय शुभ, 'इय सज्ज-मोवि सेओ' (पवा ७, १४, कुमा, पच ६६) । ५ पु अहोरात्र का दूसरा मुहूर्त (मुज्ज १०, १३) ।

सेअ वि [सैज] सकम्प, कम्प युक्त (भग ५, ७—पत्र २३४) ।

सेअ वि [श्वेत] १ शुक्ल, सफेद (णाया १, १—पत्र ५३, ग्रमि ३३, उव) । २ पु. एक इन्द्र, कुम्भ-निकाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । ३ शक्र की नट सेना का अधिपति (इक) । ४ क्षामल-कृपा नगरी का एक राजा, जिसने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी (ठा ८—पत्र ११७

४३०, राय ६) । °कंठ पु [°कण्ठ] भूतानन्द नामक इन्द्र के महिष-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२, इक) । °पड, °वड पु [°पट] श्वेताम्बर जैन, जैन का एक संप्रदाय (सुपा ६४१, जिसे २५८५, धर्मस ११०६) ।

सेअ वि [एष्यन्] आगामी, भविष्य, 'पभू गां भते केवली सेयकालसि वि तेसु चैव आगासपदेसेसु हृत्थ वा जाव आगाहिताणं चिट्ठिए' (भग ५, ४—पत्र २२३, ठा १०—पत्र ४६५, अणु २१) । °ल पु [°काल] भविष्य काल (भग, उच २६, ७१) ।

सेअकर पु [श्रेयस्कर] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) ।

सेअकार पु [श्रेयस्कार] श्रेय-करण, 'श्रेयस्' का उच्चारण (ठा १०—पत्र ४६५) ।

सेअवर पु [श्वेताम्बर] १ एक जैन संप्रदाय (स २, सम्मत १२३, सुपा ५६६) । २ न सफेद वस्त्र (पचम ६६, ३०) ।

सेअस पु [श्रेयास] १ एक राज-कुमार (वण १५) । २ चतुर्थ वासुदेव तथा बलदेव के पूर्व जन्म के धर्म गुरु—एक जैन मुनि (सम १५३, पचम २०, १७६) । देखो सेजस ।

सेअस देखो सेअ = श्रेयस् (ठा ४, ४—पत्र २६५) ।

सेअण न [सेचन] सेक, सीचना (कुमा, ग्रमि ४७, णाया १, १३—पत्र १८१, सुपा ३०६) । °वह पु [°पथ] नीक (आचा २, १०, २) ।

सेअणग } पु [सेचनक] १ राजा श्रेणिक सेअणय } का एक हाथी (उव २६४ टी, णाया १, १—पत्र २५) । २ वि सीचने-वाला (कुमा) । देखो सेचणय ।

सेअणिय वि [सेचनीय] सेवा-योग्य, 'ए सिक्खतो सेयविपस्स किंचि' (सूअ १, ५, १, ४) ।

सेअणिया छो [श्वेतविका] केकयावं देश की प्राचीन राजधानी (विचार ५०, पव २७५, इक) ।

सेआ ली [श्वेतता] सफेदपन (सुज १, १) ।

सेआ देखो सेवा (नाट—नैत ६२) ।

सेआल देखो सेवाल = शैवाल (से २, ३१) ।

सेआल देखो सेआल = एष्यत्-काल ।

सेआल पु [दे] १ गाँव का मुखिया । २ सानिध्य करनेवाला यक्ष आदि (दे ८, ५८) । ३ कृषक, खेती करनेवाला गृहस्थ (पाअ) ।

सेआली छो [वे] दूर्वा, दूब, दूम (दे ८, २७) ।

सेआलुअ पु [दे] मनीती की सिद्धि के लिए उत्प्रेष्य वेत (दे ८, ४४) ।

सेइअ त [स्वेदित] पसीना (भवि) ।

सेइआ } छो [रोतिका] परिमाण विशेष, सेइगा } दो प्रवृत्ति की एक नाप (तदु २६, उप पु ३३७, अणु १५१) ।

सेइ पु न [सेतु] १ बाँध, पुल (से ६, १७, कुप २२०, कुमा) । २ आलवाल, कियारी, थावला । ३ कियारी के पानी से सीचने योग्य खेत (श्रीप, णाया १, १ टी—पत्र १) । ४ मार्ग (श्रीप, णाया १, १ टी—पत्र १, कप्प ८६) । °वध पु [°वन्ध] पुल बाँधना (से ६, १७) । °वह पु [°पथ] पुलवाला मार्ग (से ८, ३८) ।

सेउ वि [सेकत्] सेचक, सिंचन करनेवाला (कप्प ८६) ।

सेउय वि [सेचक] सेवा-कर्ता (कप्प ८६) ।

सेँदूर देखो सिदूर (प्राप्र, सक्ति ३) ।

सेँधव देखो सिधव (विक्र ८६) ।

सेभ देखो सिभ (उव, मि २६७) ।

सेँभिय देखो सिंभिय (भग, पि २६७) ।

सेवाडग पु [दे] चुटकी की आवाज (दे ८, ४३) ।

सेचणय न [सेचनक] सिंचन, छिड़काव (मोह २७) । देखो सेअणय ।

सेचाण (अप) पु [श्येत्] छन्द-विशेष (पिंग) । देखो सेण = श्येत् ।

सेच न [शैत्य] शीतपन, ठंडापन (प्राप्र) ।

सेज्° देखो सेजा । °वइ पु [°पति] वसति-स्वामी गृहस्थ (पव ८४) ।

सेज्जअव देखो सिज्जअव (कप्प, दसनि १, १२) ।

सेज्जंस पु [श्रेयांस] १ ग्यारहवें जिनदेव का नाम (सम ८८, कप्प) । २ एक राज-पुत्र,

सुपवित्त वि [सुपवित्र] अत्यन्त विशुद्ध (सुपा ३५४)।

सुपवित्तिय [सुपवित्रित] अत्यन्त पवित्र किया हुआ (सुपा ३)।

सुपन्व पुं [सुपर्वन्] १ देव । २ न. सुन्दर पर्व (कुप्र ४२)।

सुपसाइअ वि [सुप्रसादित] अच्छी तरह प्रसन्न किया हुआ (रभा)।

सुपसिद्ध वि [सुप्रसिद्ध] अति विख्यात (पिंग)।

सुपस्स वि [सुदर्श] सुख से देखने योग्य (ठा ४, ३—पत्र २५३, ५, १—पत्र २६६)।

सुपह पुं [सुपथ] शुभ मार्ग (उव, सुपा ३७७)।

सुपहाय न [सुप्रभात] माङ्गलिक प्रातः काल (हे २, २०४)।

सुपावय वि [सुपापक] अतिशय पापी (उत्त १२, १४)।

सुपास पुं [सुपार्थ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न सातवें जिन भगवान् (सम ४३, कप्प, सुपा २)। २ भगवान् महावीर के पिता का भाई (ठा ६—पत्र ४५५, विचार ४७८)। ३ एक कुलकर पुरुष का नाम (सम १५०)। ४ भारतवर्ष के भावी तीसरे जिनदेव (सम १५३)। ५ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३)। ६ ऐरवत क्षेत्र में आगामि उत्सर्पिणी-काल में होनेवाले अठारहवें जिनदेव (सम १५४, पत्र ७)। ७ भारतवर्ष के भावी दूसरे जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५४)।

सुपासा बी [सुपार्था] एक जैन साध्वी (ठा ६—पत्र ४५७)।

सुपीअ पु [सुपीत] अहोरात्र का पांचवाँ सुहृत् (सम ५१)।

सुपुल पुन [सुपुल्ल] एक देव विमान (सम २२)।

सुपुड पुन [सुपुड्ड] एक देव-विमान (सम २२)।

सुपुप्फ पुन [सुपुप्फ] एक देव-विमान (सम ३८)।

सुपुरिस पु [सुपुरुष] सज्जन, साधु पुरुष (हे २, १८४, गउड, प्रासू ३)।

सुपेसल वि [सुपेराल] अति मनोहर (उत्त १२, १३)।

सुप्प अक [स्वप्] सोता। सुप्पइ (हे २, १७६)।

सुप्प पुंन [सूर्प] सूप, छाज, सिरकी का बना एक पात्र जिससे अन्न पछोरा जाता है (उवा, परह १, १—पत्र ८)। °णह वि [°नख] सूप के जैसे नखवाला (णया १, ८—पत्र १३३)। °णहा, °णही बी [°नखा] रावण की बहिन का नाम (प्राक ४२)।

सुप्पइट्ट देखो सुपइट्ट (राज)।

सुप्पट्टिय देखो सुपइट्टिय (राज)।

सुप्पइण्णा } बी [सुप्रतिज्ञा] दक्षिण रुचक
सुप्पइन्ना } पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी
देवी (राज, इक)।

सुप्पइत्तिय न शीतहारक वज्र-विशेष (भव० वृ० पत्र ३६५, श्लो० ४०, ४६)।

सुप्पजल वि [सुपाञ्जल] अत्यन्त ऋजु—सौधा (कप्प)।

सुप्पडिआणद वि [सुप्रस्थानन्द] उपकृत पुरुष के किये हुए उपकार को माननेवाला (ठा ४, ३—पत्र २४८)।

सुप्पडिआर न [सुप्रतिकार] उपकार का बदला, प्रत्युपकार (ठा ३, १—पत्र ११७)।

सुप्पडिबुद्ध देखो सुपडिबुद्ध (राज)।

सुप्पडिलग्ग वि [सुप्रतिलग्न] अच्छी तरह लगा हुआ, अवलम्बित (सुपा ५६१)।

सुप्पणिहाण न [सुप्रणिधान] शुभ ध्यान (ठा ३, १—पत्र १२१)।

सुप्पणिहिय देखो सुपणिहिय (परह २, १—पत्र १०१)।

सुप्पन्न वि [सुप्रन्न] सुन्दर बुद्धिवाला (सुप्र १, ६, ३३)।

सुप्पवुद्ध पुन [सुप्रवुद्ध] एक त्रैवैयक-विमान (देवेन्द्र १३६, पत्र १६४)।

सुप्पवुद्धा बी [सुप्रवुद्धा] दक्षिण रुचकपर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६, इक)।

सुप्पभ पु [सुप्रभ] वर्तमान अवसर्पिणी-काल में उत्पन्न चतुर्थ बलदेव (सम ७१)। २ आगामो उत्सर्पिणी में होनेवाला चौथा बल-

देव (सम १५४)। ३ भारतवर्ष का तृतीया कुलकर पुरुष (सम १५३)। ४ ह्रीं कान्त तथा हरिसह नामक इन्द्रों के एक-एक लोकपाल का नाम (ठा ४, १—पत्र १६७, इक)। ५ पुन एक देव विमान (सिद्ध १४१)। °कत पु [°कान्त] हस्तिना तथा हरिसह नामक इन्द्रों के एक एक लोकपाल का नाम (ठा ४, १—पत्र १६७)।

सुप्पभा बी [सुप्रभा] १ तीसरे बलदेव के माता (सम १५२)। २ धरण आदि दक्षिण श्रेणिक के कई इन्द्रों के लोकपालों को एक एक अग्रमहिषी का नाम (ठा ४, १—पत्र २०४)। ३ घनवाहन नामक विचार-रत्न की पत्नी (पठम ५, १३८)। ४ भगवत् अजितनाथ की दीक्षा शिविका (विचार १२६, सम १५१)।

सुप्पभूय वि [सुप्रभूत] अति प्रबुर (पठम ५, ३६)।

सुप्पसण्ण } वि [सुप्रसन्न] अत्यन्त प्रसन्न
सुप्पसन्न } युक्त (नाट—मालती १६१, भवि)।

सुप्पसार वि [सुप्रसारित] सुख से पसलें योग्य (सुख २, २६)।

सुप्पसारिय वि [सुप्रसारित] अच्छी तरह पसारा हुआ (श्रीप)।

सुप्पसिद्ध देखो सुपसिद्ध (सम १५१, वि ३५०)।

सुप्पसूय वि [सुप्रसूत] सम्यग् उत्पन्न (श्रीप)।

सुप्पहूव (अप) देखो सुप्पभूय (भवि)।

सुप्पाडोस पु [दे] अच्छा पडोस (आ २७)।

सुप्पिय वि [सुप्रिय] अत्यन्त प्रिय (उत्त ११, ८, सुपा ४६५)।

सुप्पुरिस देखो सुपुरिस (खण २४)।

सुफणि बीन [सुफणि] जिसमें तरु आदि उवाला जाय ऐसा बटुवा आदि पात्र (सुध १, ४, २, १०)।

सुवधु पु [सुन्धु] १ दूसरे बलदेव का पूर्वजन्मीय नाम (सम १५३)। २ भारतवर्ष का भावी सातवाँ कुलकर (सम १५३)। सुवभ पुन [सुप्रहान] एक देव-विमान (सम १६)।

(रभा) । °त्थभ पु [°स्तम्भ] पाषाण का खभा (कम्म १, १८) । °पाल, °वाल पुं [°पाल] १ धरण तथा भूतानन्द नामक इन्द्रो का एक एक लोकपाल (ठा ४, १—पत्र १६७, इक) । २ एक जैनितर घर्मावलम्बी पुरुष (भग ७, १०—पत्र ३२३) । °स न [°स] वज्र (से ३, २७) । °सिहर न [°शिखर] पर्वत का शिखर (कप्प) । °सुआ बी [°सुना] पावती (पाश्र) ।

सेलगा पु [शैलक] १ एक राजवि (गाया सेलय १, ५—पत्र १०४, २११) । २ एक यक्ष (पि १५६, गाय्या १, ६—पत्र १६४) । °पुर न [°पुर] एक नगर (गाया १, ५) ।

सेलयय न [शैलकज] एक गोत्र (ठा ७—पत्र ३६०, राज) ।

सेला बी [शैला] तीसरी नरक-पृथिवी (ठा ७—पत्र ३८८, इक) ।

सेलाइच्च पु [शैलादित्य] वलभीपुर का एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) ।

सेलु पु [शैलु] श्लेष्म-नाशक वृक्ष-विशेष (परण १—पत्र ३१) ।

सेलूस पु [दे] कितव, जुआडी (दे ८, २१) ।

सेलेय वि [शैलेय] पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय (घमवि १४०) ।

सेलेस पु [शैलेश] मेरु पर्वत (विसे ३०६५) ।

सेलेसी बी [शैलेशी] मेरु की तरह निश्चल साम्यावस्था, योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था (विसे ३०६५, ३०६७, सुपा ६५५) ।

सेलोदाइ पु [शैलोदायिन्] एक जैनितर घर्मावलम्बी गृहस्थ (भग ७, १०—पत्र ३२३) ।

सेल देखो सेल = शैल, 'न हु फिज्जइ ताण मण सेल मिव सलिलपूरेण' (वजा ११२) ।

सेल पु [दे] १ मृग-शिशु । २ शर, बाण (दे ८, ५७) । ३ कुन्त, बर्छा (कुमा, हे ४, ३८७) ।

सेल पु [शैल्य] एक राजा (गाया १, १६—पत्र २०८) ।

सेल्ला पु [शैल्यक] भुजपरिसर्प की एक जाति, जन्तु-विशेष (परह १, १—पत्र ८) ।

सेल्लि बी [दे] रज्जु, रस्ती (उत्त २७, ७) । सेव सक [सेव्] १ आराधन करना । २ आश्रय करना । ३ उपभोग करना । मेवइ, सेवए (आचा, उव, महा) । भूका सेवित्या, सेविमु (आचा) । वक्क सेवमाण (सम ३६, भग) । कवक्क सेविज्जत, सेविज्जमाण (सुर १२, १३६, कप्प) । सक्क सेविअ, सेविन्ता (नाट—मूच्छ २४५, आचा) । क्क सेवेयच्च (सुपा ५५७, कुमा), सेवणिय (सुपा १६७) ।

सेवग देखो सेवय (पचा ११, ४१) । सेवइ देखो से° = श्वेत ।

सेवण न [सेवन] १ सीना, सिलाई करना (उप पृ १२३) । २ सेवा (उत्त ३५, ३) ।

सेवणया } बी [सेवणा] सेवा (उत्त २६, सेवणा } १, उप ८०१) ।

सेवय वि [सेवक] १ सेवा-कर्ता (कुप्र ४०२) । २ पु, नौकर, श्रुत्य (पाश्र, कुप्र ४०२, सुपा ५३२) ।

सेवल न [शैवल] सेवार, सेवाल, एक प्रकार की घास जो नदियों में लगती है (पाश्र) ।

सेवा बी [सेवा] १ भजन, पयुंपासना, भक्ति । २ उपभोग । ३ आश्रय । ४ आराधन (हे २, ६६, कुमा) ।

सेवाड } न [शैवाल] १ सेवार, सेवाल, सेवाल } घास विशेष (उप पृ १३६, पाश्र, जी ६) । २ पु एक तापस, जिसको गौतम स्वामी ने प्रतिबोध किया था (कुप्र २६३) ।

ोवाइ पु [ोदायिन्] भगवान् महावीर के समय का एक अजैन पुरुष (भग ७, १०—पत्र ३२३) ।

सेवाल पु [दे] पङ्क, कादा, काँदो (दे ८, ४३, पइ) ।

सेवालि पु [शैवालिन्] एक तापस, जिसको गौतम स्वामी ने प्रतिबोध किया था (उप १४२ टी) ।

सेवालिय वि [शैवालिक, °त] सेवालवाला, शैवाल-युक्त, 'सेवालियभूमितले फिल्लुसमाणा य थामथामम्मि' (सुर २, १०५) ।

सेवि वि [सेविन्] सेवा-कर्ता (उवा) ।

सेवित्त वि [सेवित्] ऊपर देखो (सम १५) ।

सेविय वि [सेवित] जिसकी सेवा की गई हो वह (काल) ।

सेव्वा देखो सेवा (हे २, ६६, प्राप्र) ।

सेस पु [शेष] १ शेष-नाग, सर्प-राज (से २, २८) । २ छन्द का एक भेद (पिम) ।

३ वि अशिशु, बाकी का (ठा ३, १ टी—पत्र ११४, दसनि १, १३४, हे १, १८२, गउड) । °मई, °वई बी [°वती] १ सातवें वसुदेव की माता (सम १५२) । २ दक्षिण रुचक पर रहनेवाली एक दिक्कुमारी देवी (ठा ८—पत्र ४३६, इक) । ३ वल्लो-विशेष (परण १—पत्र ३३) । ४ भगवान् महावीर की दौहित्री—पुत्री की पुत्री (आचा २, १५, १६) । °व न [°वत्] अनुमान का एक भेद (अणु २१२) । °राअ पुं [°राज] छन्द विशेष (पिम) ।

सेसव न [शैशव] वाल्यावस्था (दे ७, ७६) ।

सेसा बी [शेषा] निर्मल्य (उप ७२८ टी; सिरि ५५५) ।

सेसिअ वि [शेषित] १ बाकी बचाया हुआ (गा ६६१) । २ अल्प किया हुआ, खतम किया हुआ (विसे ३०२६) ।

सेसिअ वि [श्लेषित] सबद्ध किया हुआ, चिपकाया हुआ (विमे ३०३६) ।

सेह अक [नम्] पलायन करना, भागना । सेहइ (हे ४, १७८, कुमा) ।

सेह सक [शिक्ष्य] १ सिखाना, सीख देना । २ सजा करना । सेहति (सूत्र १, २, १, १६) । कवक्क सेहिज्जत (सुपा ३४५) ।

सेह पु [दे, सेह] भुजपरिसर्प की एक जाति, साँही, जिसके शरीर में काँटे होते हैं (परह १, १—पत्र ८, परण १—पत्र ५३) ।

सेह पु [शैक्ष] १ नव दीक्षित साधु (सूत्र १, ३, १, ३, सम ५८, श्रौव १६५, ३७८, उव, कस) । २ जिसको दीक्षा दी जानेवाली हो वह (पव १०७) । ३ शिष्य, चेला (सुख १, १३) ।

सेह पु [सेध] सिद्धि (उवा) ।

सेहव वि [सेधाम्ल] खाद्य-विशेष, वह खाद्य जिसमें पकने पर खटाई का सस्कार किया जाय (उवा, परह २, ५—पत्र १५०) ।

सुमण } न [सुमनस्] १ पुष्प, फूल
सुमणस } (हे १, ३२, सुपा ८६) । २ पुं.
देव, सुर (सुपा ८६, ३३४) । ३ वि. सुन्दर
मनवाला, सज्जन (सुपा ३३४, पत्रम ३६,
१३०, ७७, १७, रथण ३) । ४ हर्षवान्,
आनन्दित, सुखी (ठा ३, २—पत्र १३०) ।
५ पुंन. एक देव-विमान (वेवेन्द्र १३६) ।
°भद्र पुं [°भद्र] १ भगवान् महावीर के
पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाने वाला एक
गृहस्थ (अत १८) । २ आर्य समूहविजय के
एक शिष्य, एक जैन मुनि (कप्प) ।
सुमणसा स्त्री [सुमनस] वल्ली-विशेष
(परण १—पत्र ३३) ।
सुमणा स्त्री [सुमनस] १ भगवान् चन्द्रप्रभ
की प्रथम शिष्या (सम १५२, पत्र ६) । २
भूतानन्द आदि इन्द्रो के एक-एक लोकपाल
की एक-एक अग्र-महिषी का नाम (ठा ४,
१—पत्र २०४) । ३ राजा श्रेणिक की एक
पत्नी (अत २५) । ४ एक जम्बू वृक्ष का
नाम (इक) । ५ शक्र की पत्नी नामक
इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । ६
मालती का फूल (स्वप्न ६१) ।
सुमणो° देखो सुमण (उप ५ १८) ।
सुमणोहर वि [सुमनोहर] अत्यन्त मनोहर
(उप ५ १८) ।
सुमर सक [स्मृ] याद करना । सुमरइ (हे
४, ७४) । भवि. सुमरिस्ससि (पि ५२२) ।
कर्म सुमरिज्जइ (हे ४, ४२६, पि ५३७) ।
वक्क सुमरत (सुर ६, ६४, सुपा ४०८,
पत्रम ७८, १६) । कवक्क सुमरिज्जत (पत्रम
५, १८६, नाट—नालती ११०) । सक्क
सुमरिअ, सुमरिऊण (कुमा, काल) । हेक्क.
सुमरेउ, सुमरिउए (पि ४६५, ५७८) ।
क्क सुमरियब्ब, सुमरेयब्ब, सुमरणीअ
(सुपा १५३, १८२, २१७, अग्नि १२०) ।
सुमर पु [स्मर] कामदेव (नाट—वेत ८१) ।
सुमरण बीन [स्मरण] याद, स्मृति (कुमा,
हे ४, ४२६, वसु प्राप. सुपा ७१, १५६,
३६७, स ३३४) । बी °णा (स ६७०,
सुपा २२०) ।
सुमारन सक [स्मारय] याद दिताना ।
क्क सुमारवत (कुप ५६) ।

सुमराविथ वि [स्मारित] याद कराया हुआ
(सुर १४, ४८, २४३) ।
सुमारिअ देखो सुमर=स्मृ ।
सुमारिअ वि [स्मृत] याद किया हुआ (पात्र) ।
सुमरुया स्त्री [सुमरुत्] भगवान् महावीर
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाला राजा
श्रेणिक की एक पत्नी (अत २५) ।
सुमहुर वि [सुमधुर] अति मधुर (विपा १,
७—पत्र ७७) ।
सुमाणस वि [सुमानस] प्रशस्त मनवाला,
सज्जन (पत्रम १८२, २७) ।
सुमाणस पु [सुमानुप] सज्जन, उत्तम मनुष्य
(सुपा २५६) ।
सुमालि पु [सुमालिन्] एक राज-कुमार
(पत्रम ६, २२०) ।
सुमिण पुन [स्वप्न] १ स्वप्न, सपना (हे १,
४६, कुमा, महा, पडि, सुर ३, ६१, ६७) ।
२ स्वप्न के फल को बतलानेवाला शास्त्र
(स्वप्न ४६) । °पाठय वि [°पाठक] स्वप्न
के फल बतानेवाले शास्त्री का जानकार
(गाथा १, १—पत्र २०) । देखो सुविण ।
सुमित्त पु [सुमित्र] १ भगवान् मुनिसुव्रत-
स्वामी का पिता—एक राजा (सम १५१) ।
२ द्वितीय चक्रवर्ती का पिता (सम १५२) ।
३ चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म का नाम (पत्रम
२०, १६०) । ४ छठवें बलदेव के धर्मगुरु
एक जैन मुनि (पत्रम २०, २०५) । ५ एक
वणिक का नाम (उप ७२८ टो) । ६ अच्युता
मित्र, 'सुमित्तोच्च जिणधम्मो' (सुपा २३४) ।
७ भगवान् शान्तिनाथ को प्रथम भिक्षा देनेवाले
एक गृहस्थ का नाम (सम १५१) ।
सुमित्ता स्त्री [सुमित्रा] लक्ष्मण की माता
और राजा दशरथ की एक पत्नी (पत्रम २५,
६) । °तणय पु [°तनय] लक्ष्मण (स ८,
१५, १६, ३२) ।
सुमित्त पु [°नोमित्रि] सुमित्रा का पुत्र—
लक्ष्मण (पत्रम ६४, ३६) ।
सुमुद्वन वि [सुमुद्वित] मति हारित (श्लोप) ।
सुमुदी देखो सुमुदी (विग) ।
सुमुणिअ वि [सुसान] अच्युत तरह जाना
हुआ (सुपा २८२) ।

सुमुद पु [सुमुख] १ भगवान् वेमिज्ज देव
दीक्षा लेकर मुक्ति पानेवाला एक धर्मगुरु
(अत ३) । २ राक्षस वध का एक एता न
लका-पति (पत्रम ५, २६१) । ३ न. न.
विशेष (अग्नि २०) ।
सुमुही स्त्री [सुमुली] अन्ध विशेष (मिग) ।
सुमेधा स्त्री [सुमेधा] ऊर्ध्वं वीर्यं सूर्य
एक विष्कम्भारी देवी (ठा ८—पत्र १३०) ।
सुमेरु पु [सुमेरु] मेरु-पर्वत (पात्र, पत्र
७५, ३८) ।
सुमेहा देखो सुमेधा (इक) ।
सुमेहा स्त्री [सुमेधा] सुन्दर बुद्ध (ज
३६८) ।
सुम्मत देखो सुण=श्रु ।
सुम्ह पु व. [सुम्हा] देश विशेष (हेर ७)
सुर पु [सुर] १ देव, देवता (परण १, ६
पत्र ६८, कप्प, जी ३३, कुमा) । २
राजा का नाम (उप ७६५) । °न
[°वन] नन्दन वन (स ६, ८६) । °त
[°तरु] कल्प वृक्ष (नाट) । °द्रवि
[°करटिन्] ऐरावण हामी (सुपा १६
°करि पु [°करिन्] वही धर्म (सुपा २६१)
°कुभि पु [°कुम्भिन] वही (सुपा २०)
°कुमार पु [°कुमार] भगवान् गान्धर्व
शासन यज्ञ (पत्र २६) । °सुमुप [°सु
लवण, लोण (पि ४४) । °गव पु [°
इन्द्र हस्ती, ऐरावण (पात्र, पत्र २
°गिरि पु [°गिरि] मेरु पर्वत (सु
३१, ३५८, सण) । °गिह देव [°
७६८ टो) । °गुरु पु [°गुरु] १ गुरु
(पात्र, सुपा १७६) । २ नाटिक द
प्रवर्तक एक प्राचार्य (माद १०६) ।
पु [°नोप] कीट-विशेष, इन्द्राणी
१, ६—पत्र १६८, पात्र) । °पर न [°
१ देव-मन्दिर (उप ४) । २ °र
(नण) । °वन स्त्री [°नम्] १
(सुपा ११) । °चाय पु [°चाय]
चतुप (ना ५८४, ८०८, सुत १
°जाळ न [°जाळ] पत्रमान (पत्रम
°नो [°नो] भगवती (पात्र) । °
[°नाथ] २३ (पा ८६६, ९) । °र

सोगधिया बी [सौगन्धिका] नगरी-विशेष (णया १, ५ - पत्र १०५) ।

सोगमह देखो सोअमह (दस २, ५) ।

सोगमइ देखो सुगमइ (उत्त २८, ३, पत्रम २६, ६०, स २५०) ।

सोग्गाह (?) अक [प्र + स] पसरना, फैलना । सोग्गाहइ (घात्वा १५६) ।

सोच देखो सोअ = शुच । वक्क सोचत, सोचमाण (नाट—मूच्छ २८१, णया १, १—पत्र ४७) । सक्क 'सोचिऊण हत्थपाए आरोग्गमणिरयणेण ओमज्जिओ राया' (स ५६७) । क. सोच्च (उव) ।

सोचिय वि [शोचित] शुद्ध किया हुआ, प्रकालित (स ३६८) ।

सोच्च देखो सोच ।

सोच्च
सोच्चा } देखो सुण = श्रु ।
सोच्छ }

सोच्छिअ देखो सोत्थिअ (इक) ।

सोजण्ण } न [सौजन्य] सुजनता, सजनता,
सोजन्न } भलमनसी (उप ७२८ टी. सुर २, ६१) ।

सोज्ज देखो सोरिअ = शौच (प्राक्क १६) ।

सोज्ज वि [शोधय] शुद्धि-योग्य, शोधनीय (सुज १०, ६ टी) ।

सोज्जय पृ [दे] रजक, घोवो (पात्र) ।
देखो सुज्जय ।

सोडिअ देखो सोडिअ (कपूर् ३४) ।

सोडीर वि [शोटीर] देखो सोडीर = शौएडीर (कप्प, औप, मोह १०४, कप्पू, चारु ६३) ।

सोडीरन [शांटीर्य] देखो सोडीर = शौएडीर्य (कुमा, से ३, ४, ५, ३, १३, ७६, ८७, प्राक्क १६) ।

सोड वि [सोड] सहन किया हुआ (उप २६४ टी, घात्वा १५७) ।

सोडय्य }
सोडु } देखो सह = सह् ।

सोण वि [शोण] लाल, रक्त वर्णवाला (पात्र) ।

सोणद न [दे मीनन्द] त्रिकाष्ठिका, तिपाई (पएह १, ४—पत्र ७८, औप, तद् २०) ।

सोणहिअ वि [शौनिक्रिक] १ खान-पालक ।
२ कुत्तो से शिकार करनेवाला (स २५३) ।

सोणार देखो सुण्णार (गा १६१, पि ६६, १५२) ।

सोणि बी [शोणि] कटी, कमर (कप्प, उप १५६) । सुत्तग न [सूत्रक] कटी-सूत्र, करवनी (औप) ।

सोणिअ पृ [शौनिक] कसाई (दे ६, ६२) ।

सोणिअ न [शोणित] बधिर, बून (उवा. भवि) ।

सोणिम पुं बी [शोणिमन्] रक्तता, लाली (विक्र २८) ।

सोणी बी [शोणी] देखो सोणि (पएह १, ४—पत्र ६८, ७६) ।

सोणीअ देखो सोणिअ = शोणित, 'भुंजते मससोणीअ ए छये ए पमज्जए' (आचा १, ८, ८, ६, पि ७३) ।

सोण्ण न [स्वर्ण] सोना, सुवर्ण (प्राक्क ३०, सक्ति २१) ।

सोण्ह देखो सुण्ह = सूक्ष्म (षड्, गा ७२३) ।

सोण्ह देखो सुण्ह = स्त्रुषा (सक्ति १५, प्राक्क ३७, गा १०७, काप्र ८६३) ।

सोत्त न [श्रोत्र] कान, श्रवणोन्द्रिय (आचा, रसा, विक्र ६८) ।

सोत्त देखो सोअ = स्रोतस (हे २, ६८, गा ५५१, से १, ५८, कुमा) ।

सोत्ति देखो सुत्ति = शुक्ति (षड्, उप ६४८ टी) ।

सोत्तिअ पृ [श्रोत्रिय] वेदाभ्यासी ब्राह्मण (पिड ४३६, नाट—मूच्छ १३४, प्राप) ।

सोत्तिअ वि [सौत्रिक] १ सूत्र-निमित्त, सूते का बना हुआ (औपमा ८६, औघ ७०५) ।
२ सूते का व्यापारी (प्रलु १४६) ।

सोत्तिअ पृ [श्रौक्तिक] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष (पएण १—पत्र ४६) ।

सोत्तिअमई } बी [शुक्तिऋवती] केकय
सोत्तिअवई } देश की प्राचीन राजधानी (राज, इक) ।

सोत्ती बी [दे] नदी (दे ८, ४४, षड्) ।

सोत्थि पुं न [स्वस्ति] १ एक देव-विमान (देवेन्द्र १३३) । २—देखो सत्थि (सक्ति

२१, गा २४४, अग्नि १२८, नाट—रत्ता १०) ।

सोत्थिअ पु [स्वस्तिऋ] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ठा २, ३—पत्र ७८) । २ न शाक-विशेष, एक प्रकार की हरित वनस्पति (पएण १—पत्र ३४) । ३—देखो सत्थिअ, सोवत्थिअ = स्वस्तिक (पएह १, ४—पत्र ६८, णाण १, १—पत्र ५४) ।

सोदाम पृ [सौदाम] देखो सोदामि (इक) ।

सोदामणी देखो सोआमणी (पउम २६, ८१) ।

सोदामि पृ [सौदामिन्] चमरेन्द्र के अश्व-सैन्य का अधिपति (ठा ५, १—पत्र ३०२) ।

सोदामिणी देखो सोआमिणी (नाट—मालती ८) ।

सोदास पुं [सौदास] एक राजा (पउम २२, ८१) ।

सोध (शौ) देखो सउह = सोध (पि ६१ ए) ।

सोपार } पुं व. [सोपार, क] देश-
सोपारय } विशेष (पउम ६८, ६४, सुपा २७५) । २ न नगर-विशेष (सार्ध ३६, ती ११) ।

सोवयव वि [सौवन्धव] सुवन्धु नामक कवि का बनाया हुआ ग्रथ (गलड) ।

सोभ अक [शुभ] शोभना, चमकना । सोभति (सुज्ज १६) भूका. सोभिसु, सोभिसु (सुज्ज १६) । भवि सोभिस्संति (सुज्ज १६) । वक्क सोभत (णया १, १—पत्र २५, कप्प, औप) ।

सोभ सक [शोभय] शोभाना, शोभा-शुक्त करना । सोभेइ (भग) । वक्क. सोभयंत (पि ४६०) । सक्क सोभित्ता (कप्प) ।

सोभग वि [शोभक] १ शोभनेवाला । २ शोभानेवाला (कप्प) ।

सोभग्ग देखो सोहग्ग (स्वप्न ४५) ।

सोभण देखो सोहण = शोभन (पउम ७८, ५६, स्वप्न ४६) ।

सोभा देखो सोहा = शोभा (प्राक्क १७, उत्त २१, ८, कप्प, सुज्ज १६) ।

सोमिल पु [सोमिल] एक ब्राह्मण (अत ६)।

सोमेत्ति देखो सोमिन्ति = सौमित्रि (से १२, ८८)।

सोमेसर पु [सोमेश्वर] सौराष्ट्र का सोमनाथ महादेव (सम्मत् ७५)।

सोम्म वि [सौम्य] रमणीय, सुन्दर (से १, २७)। २ ठढा, शीतल (से ४, ८)। ३ शीतल प्रकृतिवाला, शान्त स्वभाववाला (से ५, १६, विसे १७३१)। ४ प्रिय-दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय लगे वह। ५ जिसका अविद्याता सोम-देवता हो वह। ६ भास्वर, कान्तिवाला। ७ पु बुध ग्रह। ८ शुभ ग्रह। ९ वृष आदि सम राशि। १० उदुम्बर वृक्ष। ११ द्योप-विशेष। १२ सोम-रस पीनेवाला ब्राह्मण (प्राप्र)। देखो सोम = सौम्य।

सोल्लि (अप) अ [स एव] वही (प्राक् १२१)।

सोरट्ट पुं [सौराष्ट्र] १ एक भारतीय देश, सोरठ, काठियावाड (इक. ती १५)। २ वि सोरठ देश का निवासी (आवक ६३)। ३ न छन्द-विशेष (पिंग)।

सोरट्टिया स्त्री [सौराष्ट्रिका] १ एक प्रकार की मिट्टी, फिटकिरी (आवा २, १, ६, ३, वस ५, १, ३४)। २ एक जैन मुनि-शाखा (कम्प)।

सोरठभ न [सौरभ] सुगन्ध, बुशबू (विक्र सोरभ ११३, कुप्र २२३, भवि. उप सोरभ ६८६ टी)।

सोरसेणी स्त्री [शौरसेनी] शूरसेन देश की प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद (विक्र ६७)।

सोरह देखो सोरभ (गउड)।

सोरिअ न [शौर्य] शूरता, पराक्रम (प्राप्र, प्राक् १६)।

सोरिअ न [शौरिक] १ कुशावर्त देश की प्राचीन राजधानी (इक)। २ एक यज्ञ (विपा १, ८—पत्र ८२)। ३ वृत्त पु [दत्त] १ एक मन्त्रीमार का पुत्र (विपा १, १—पत्र ४, विपा १, ८)। २ एक राजा (विपा १, ८—पत्र ८२)। ३ पुर न [पुर] एक नगर

(विपा १, ८)। ४ वडिसग न [वर्तसक] एक उद्यान (विपा १, ८—पत्र ८२)।

सोलम त्रि व [षोडशान्] १ संख्या-विशेष, सोलह, १६। २ सोलह सख्यावाला (अग ३५, १—पत्र ६६४, ६६७, उवा, सुर १, ३५, प्रासू ७७, पि ४४३)। ३ वि सोलहवाँ, १६ वाँ (राज)। ४ म वि [श] १ सोलहवाँ, १६ वाँ (खाया १, १६—पत्र १६६, सुर १६, २५१, पत्र ४६)। २ लगा तार सात दिनों के उपवास (खाया १, १—पत्र ७२)। ३ य न [क] सोलह का समूह (उत्त ३१, १३)। ४ विह वि [विध] सोलह प्रकार का (पि ४५१)।

सोलसिआ स्त्री [षोडशिका] रस-मान-विशेष, सोलह पलो की एक नाप (अपु १५२)।

सोलह देखो सोलस (नाट. भवि)।

सोलहावत्तय पुं [दे] शल (दे ८, ४६)।

सोल्ल सक [पच्] पकाना। सोल्लइ (हे ४, ६०, धात्वा १५६)। वक सोल्लत (विपा १, ३—पत्र ४३)।

सोल्ल सक [क्षिप्] फँकना। सोल्लइ (हे ४, १४३, षट्)। कर्म. सोल्लजइ (कुमा)।

सोल्ल सक [ईर, सम् + ईर] प्रेरणा करना। सोल्लइ (धात्वा १५६, प्राक् ६६)।

सोल्ल न [दे] मांस (दे ८, ४४)। देखो सुल्ल = शूल्य।

सोल्ल वि [पक] पकाया हुआ (उवा, विपा १, २—पत्र २७, १, ८—पत्र ८५, ८६, श्रौप)।

सोल्लिय वि [पक] १ पकाया हुआ, 'इगाल-सोल्लिय' (श्रौप)। २ न पुष्प-विशेष (श्रौप)।

सोच देखो सुव = स्वप्। सोचइ, सोचति (हे १, ६४, उव, भवि, पि १५२)।

सोचक्रम } वि [सोपक्रम] निमित्त-कारण
सोचक्रम } से जो नष्ट या कम हो सके वह कर्म, आयु, आपदा आदि (सुपा ४५२, ४५६)।

सोचचिय वि [सोपचित] उपचय-युक्त, स्कीत, पुष्ट (कम्प)।

सोचबल पुन [सौचबल] एक तरह का नोन, काला नमक (वस ३, ८, चड)।

सोवण न [स्वपन] शयन, सोना (उप पु २३७)।

सोवण न [दे] १ वास-गृह, शय्या-गृह, रति-मन्दिर (दे ८, ५८, स ५०३ पात्र)। २ स्वप्न। ३ पु मल्ल (दे ८, ५८)।

सोवण (अप) देखो सोवण्ण (भवि)।

सोवणिअ वि [शौचनिक] १ श्वान-पालक, कुत्तो को पालनेवाला। २ कुत्तो से शिकार करनेवाला (सुप्र २, २, ४२)।

सोवणी स्त्री [स्वापनी] विद्या-विशेष (पि ७८)।

सोवण्ण वि [सौवर्ण] स्वर्ण-निमित्त, सोने का (महा. सम्मत १७३)।

सोवण्णमक्खिआ स्त्री [दे] मधुमक्षिका की एक जाति, एक तरह की शहद की मक्खी (दे ८, ४६)।

सोवण्णअ } वि [सौवर्णिक] सोने का,
सोवण्णिग } सुवर्ण-वर्तित (प्रति ७, स ४५८)। ३ पन्वय पु [पर्वत] मेरु पर्वत (पउम २, १८)।

सोवण्णेअ पुत्री [सौपर्णेय] गहडपक्षी। स्त्री. ०आ, ०ई (षट्)।

सोवत्थ न [दे] १ उपकार। २ वि. उपभोग्य, उपभोगयोग्य (दे ८, ४५)।

सोवत्थि } वि [सौवस्तिक] १ मङ्गलिक
सोवत्थिअ } वचन बोलनेवाला, मागध आदि स्वस्तिक-वाचक (ठा ४, २—पत्र २१३, श्रौप)। २ पु ज्योतिष्क महाप्रह-विशेष (ठा २ ३—पत्र ७८)। ३ त्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति (पएण १—पत्र ४५)।

सोवत्थिअ पु [स्वस्तिक] १ साधिया, एक मङ्गलचिह्न (श्रौप)। २ पुन विद्युत्प्रभ नामक वक्षस्कार पर्वत का एक शिखर (इक)। ३ पूर्व वचक-पर्वत का एक शिखर (राज)। ४ एक देव-विमान (देवेन्द्र १४१)। देखो सत्थिअ, सोरिअअ = स्वस्तिक।

सोवन्न देखो सोवण्ण (अत १७, आ २८, सिरि ८११, भवि)।

सोवन्निय देखो सोवण्णिअ (खाया १, १—पत्र ५२)।

सोवरिअ देखो सोअरिअ = शौकरिक (सुप्र २, २, २८)।

- विद्याधर नरेश (पञ्चम ७, २६) । °दत्त पु [°दत्त] एक राज-कुमार (उप ६३६) ।
- सुरिदय पु [सुरेन्द्रक] विमानेन्द्रक, देव-विमान-विशेष (देवेन्द्र १३१) ।
- सुरी की [सुरी] देवी (कुमा)
- सुरंगा देखो सुरंगा (पञ्चम ८, १५८) ।
- सुरुष पु [सूर] देश-विशेष (हे २, ११३, पङ्) । °ज वि [°ज] देश विशेष मे उत्पन्न (कुमा) ।
- सुरुडु वि [सुरुड] प्रत्यन्त रोप युक्त (पञ्चम ६८, २५) ।
- सुरूया की [सुरूपा] एक इन्द्राणी (गाथा २—पत्र २५२) । देखो सुरूवा ।
- सुरुव पु [सुरुप] श्रुत-निकाय के दक्षिण दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ न सुन्दर रूप । ३ वि. सुन्दर रूपवाला (उवा; भग) ।
- सुरूवा की [सुरूपा] श्रुत तपा प्रतिरूप नामक भूतेन्द्रो की एक एक अग्र महिषी (ठा ४, १—पत्र २०४) । २ भूतानन्द नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी (इक) । ३ एक दिशा-कुमारी देवी (ठा ४, १—पत्र १६८, ६—पत्र ३६१) । ४ एक कुलकर-पत्नी (सम १५०) । ५ सुन्दर रूपवाली (महा) ।
- सुरेश पु [सुरेश] श्रुत देव पति, इन्द्र । २ उत्तम देव (सुपा ६१४) ।
- सुरेश्वर पुं [सुरेश्वर] इन्द्र, देव-राज (सुपा २७, कुप्र ४) ।
- सुलक्षणाणि वि [सुलक्षणान्] उत्तम लक्षण-वाला (घर्मनि १४२) ।
- सुलग वि [सुलग] अच्छी तरह लगा हुआ (महा) ।
- सुलद्ध वि [सुलद्ध] सम्पत् प्राप्त (गाथा १, १—पत्र २४, उवा) ।
- सुलुभ } वि [सुलुभ] सुख से प्राप्त हो सके सुलुभ } वह (आ १२, सुख २, १५, महा) ।
- सुलस पु [सुलस] पर्वत-विशेष (इक) ।
- सुलस न [दे] कुसुम्भ-रक्त वज्र (दे ८, ३७) ।
- सुलसमजरी } की [दे] तुलसी (दे ८, ४०, सुलसा } पाष) ।
- सुलसा की [सुलसा] श्रुत नववै जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२) । २ भगवान् महावीर की एक श्राविका, जिसका आत्मा आगामि काल मे तीर्थकर होगा (ठा ६—पत्र ४५५, सम १५४) । ३ नाग नामक गृहपति की स्त्री (अत ४) । ४ शक की एक अग्र-महिषी, एक इन्द्राणी (पञ्चम १०२, १५६) । ५ शकपुर के राजा सुन्दर की पत्नी (महा) ।
- सुलह देखो सुलभ (स्वप्न ४८, महा, ८ ४६) ।
- सुलाह पु [सुलाभ] अच्छा नफा (सुपा ४४६) ।
- सुली की [दे] उल्का, आकाश से गिरती आग (दे ८, ३६) ।
- सुलुसुल } अन् [सुलुसुलाय] 'सुल' 'सुल' सुलुसुलाय } आवाज करना । सुलुसुलाय (तदु ४१) । वक्र सुलुसुलित, सुलुसुलित (तदु ४४, महा) ।
- सुलूह वि [सुरूक्ष] अत्यन्त लूना—लूना (सूत्र १, १३, १२) ।
- सुलोअ देखो सिलोअ = श्लोक (अवि १६) ।
- सुलोयण पु [सुलोचन] एक विद्याधर-नरेश (पञ्चम ५, ६६) ।
- सुलोल वि [सुलोल] अति चपल (कप्यु) ।
- सुल न [शूल्य] शूला-प्रोत मास (दे ८, ३६, पात्र) ।
- सुव अक [स्वप्] सोना । सुवह, सुवति (हे १, ६४, षड्, महा, रभा) । अवि सुविस्स (पि ५२६) । वक्र सुवत, सुवमाण (पाष, से १, २१, भग) । संक्र. सुविजण (कुप्र ५६) ।
- सुव देखो स्व = स्व (हे २, ११४, षड्, कुमा) ।
- सुव (अप) देखो सुअ = श्रुत, सुत (अवि) ।
- सुवस पु [सुवस] श्रुत अच्छा वांस । २ वि सुन्दर कुल मे उत्पन्न, खानदानी (हे ४, ४१६) ।
- सुवगु पुं [सुवगु] एक विजय-क्षेत्र, जिसकी राजधानी खड्गपुरी है (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) ।
- सुवच्छ पु [सुवत्स] श्रुत अन्तर-देवो का एक इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८५) । २ एक
- विजय-क्षेत्र, प्रान्त-विशेष, जिसकी राजधानी कुडला नगरी है (ठा २, ३—पत्र ८०, इक) ।
- सुवच्छा की [सुवत्सा] श्रुत अन्तर-देवो का एक देवी (इक) ।
- सुवज्ज पु [सुवज्ज] श्रुत एक विद्याधर वशीप राजा (पञ्चम ५, १६) । २ पुन, एक देव विमान (सम २५) ।
- सुवद्विय वि [सुवद्वित] अतिशय गोल किमा हुआ (राज) ।
- सुवण न [स्वपन] शयन (शोध ८७, पचा १, ४५, उप ७६२) ।
- सुवण्ण पु [सुवण] श्रुत गड पक्षी (उत्त १४, ४७) । २ भवनपति देवो की एक जाति (शोध) । ३ आदित्य, सूर्य (गड) । °कुमार पु [°कुमार] भवनपति देवो की एक जाति (इक) ।
- सुवण्ण पु [दे] भजुं वृक्ष (दे ८, ३७) ।
- सुवण्ण त [सुवण] श्रुत सोना, हेम (उवा, महा, गाथा १, १७, गड) । २ पु. भवन पति देवो की एक जाति (भग) । ३ सोलह कर्म-भाषक का एक वाँट (अग्यु १५५) । ४ सुन्दर वण । ५ वि सुन्दर वणवाला (भग) । °आर, °कार पुं [°कार] सोनी, सुनार (दे महा) । °कुम पु [°कुम्भ] प्रथम बलदेव के घर्म-गुरु एक जैन मुनि (पञ्चम २०, २०५) । °कुसुम न [°कुसुम] सुवर्ण-युधि का लता का फूल (राय ३१) । °कूला की [°कूला] नदी-विशेष (सम २७, इक) । °गुलिया की [°गुलिन] एक दासी का नाम (महा) । °सिला की [°शिला] एक महौषधि (ती ५, राज) । °गर पु [°गर] सोने की खान (गाथा १, १७—पत्र २२८) । °र पु [°कार] सोनी (उप ४ ३५१) । देखो सुवज = सुवण ।
- सुवण्णविदु पु [दे] विष्णु (दे ८, ४०) ।
- सुवण्णिवि [सौवर्णिक] सुवर्ण-मय, सोने का बना हुआ (हे १, १६०, षड्, प्राङ् ३६) ।
- सुवत्त देखो सुवन्त (राज) ।

सोहा स्त्री [शोभा] १ दीप्ति, चमक (से १, ४८, कुमा, सुपा ३१, रंभा) । २ छन्द-विशेष (पिंग) ।
 सोहाय सक [शोधय] सफा कराना ।
 सोहावेह (स ५१६) ।
 सोहाविय वि [शोधित] साफ कराया हुआ (स ६२) ।
 सोहि स्त्री [शुद्धि, शोधि] १ निर्मलता (शाया १, ५—पत्र १०५, सबोध १२) ।
 २ आलोचना, प्रायश्चित्त (शोध ७६१, ७६७, आचा) ।
 सोहि वि [शोधिन] शुद्धि-कर्ता (श्रीप) ।

सोहि वि [शोभिन्] शोभिनेवाला (सबोध ४८, कप्पू, भवि) । स्त्री ०णी (नाट—रत्ना १३) ।
 सोहि पुत्री [दे] १ भूत काल । २ भविष्य काल (दे ८, ५८) ।
 सोहिअ न [दे] पिष्ट, आटा, चावल आदि का घूर्ण (षड्) ।
 सोहिअ वि [शोभित] शोभा-युक्त (सुर ३, ७२, महा, श्रीप, भग) ।
 सोहिअ वि [शोधित] शुद्ध किया हुआ (परह २, १, भग) ।
 सोहिद देखो सोहद (नाट—शकु १०६) ।

सोहिर वि [शोभित्] शोभिनेवाला (गा ५११) ।
 सोहिल्ल वि [शोभावत्] शोभा-युक्त (गा ५४७, सुर ३, ११, ८, १०८, हे २, १५६, चड, भवि, सण) ।
 सौअरिअ देखो सोअरिअ = सौदर्य (चड) ।
 सौअरिअ न [सौन्दर्य] सुन्दरता (हे १, १) ।
 सौह देखो सउह = सौध (कवि ५६, नाट—मालती १३६) ।
 ०स्स देखो स = स्व (गा २२६) ।
 ०स्सास देखो सास = धास (गा ८५६) ।
 ०स्सिरी देखो सिरी = श्री (गा ६७७) ।
 ०स्सेअ देखो सेअ = स्वेद (श्रि २१०) ।

॥ इअ सिरिपाइअसहमहणवम्मि सयाराइसहसंकलणो
 सत्ततीसइमो तरंगो समत्तो ॥

ह पु [ह] १ कठ स्थानीय व्यञ्जन वर्ण-विशेष (प्राप, प्रामा) । २ अ इन अर्थों का सूचक अव्यय—सवीधत, 'से-भिक्षू गिलाइ, से हंद ह ए तस्साहरह' (आचा २, १, ११, १, २, पि २७५) । ३ नियोग । ४ क्षेप, निन्दा । ५ निग्रह । ६ प्रसिद्धि । ७ पादधृति (हे २, २१७) ।
 ह देखो हा = अ (हे १, ६७) ।
 हइ स्त्री [हति] हनन, वध, मारण (आ २७) ।
 ह अ [हम्] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ क्रोध (उवा) । २ असम्मति (स्वप्न २१) ।
 हजय पु [दे] शरीर-स्पर्श-पूर्वक किया जाता शपथ—सौगध (दे ८, ६१) ।
 हजे अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ दासी का ग्राहान (हे ४, २८१, कुमा, पिंग) । २ सजो का आमन्त्रण (स ६२२, सम्मत्त १७२) ।
 १हड देखो सड (हम्मीर १७) ।

१हडण देखो भडण (गा ६१२, पि ५८८) ।
 हत देखो हता (धर्मस २०२, राय २६, सण, कप्पू, पि २७५) ।
 हतव्व } देखो हण ।
 हता }
 हता अ [हन्त] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ अभ्युपगम, स्वीकार (उवा, श्रीप, भग, तडु १४, अणु १६०, शाया १, १—पत्र ७४) । २ कोमल आमन्त्रण (भग, अणु १६०, तडु १४, श्रीप) । ३ वाक्य का आरम्भ । ४ प्रत्यवधारण । ५ सप्रेषण । ६ खेद । ७ निर्देश (राज) । ८ हर्ष । ९ अनुकम्पा (राय) । १० सत्य (उवा) ।
 हतु वि [हन्तु] मारनेवाला (आचा, भग, पत्र ५१, १६, ७३, १६, विसे २६१७) ।
 हत्तण देखो हण ।
 हदि अ. 'ग्रहण करो' इस अर्थ का सूचक अव्यय (हे २, १८१, कुमा, आचा २, १, ११, १, २, पि २७५) ।

हदि अ. इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ विषाद, खेद । २ विकल्प । ३ पश्चात्ताप । ४ निश्चय । ५ सत्य । ६ 'लो', 'ग्रहण करो' (प्राप्र, हे २, १८०, षड्, कुमा) । ७ आमन्त्रण, संबोधन (पिड २१०, धर्मसं ४४) । ८ उपदर्शन (पचा ३, १२, दसनि ३, ३७) ।
 हभो देखो हहो (सुर ११, २३४, आचा, सूअ २, २, ८१) ।
 हस देखो हस्स = हस्व (प्राप्र) ।
 हस पुं [हस्] १ पक्षि-विशेष (शाया १, १—पत्र ५३, परह १, १—पत्र ८, कुमा, प्रासू १३, १६६) । २ रजक, घोबो, 'वत्य-घोवा हवति हसा वा' (सूअ १, ४, २, १७) । ३ सन्यासि विशेष (से १, २६, श्रीप) । ४ सूर्य, रवि (सिरि ५४७) । ५ मणि-विशेष, हंसगर्भ नामक रत्न की एक-जाति (परण १—पत्र २६) । ६ छन्द का एक भेद (पिंग) । ७ निर्लोभी राजा । ८

सुवो देखो सुवे (पड, प्राप) ।
 सुव्य न [शुव्य] १ तावा, ताम्र (ती २) ।
 २ रज्जु रस्ती । ३ जल समीप । ४ आचार ।
 ५ यज्ञ का कार्य (हे २, ७६) ।
 सुव्यत देखो सुण ।
 सुव्यत देखो सुव्यर (ठा २, ३—पत्र ७८) ।
 सुव्यत्त वि [सुव्यत्त] स्फुट, सुस्पष्ट (अत
 २०, श्रौप, नाट—मृच्छ २८) ।
 सुव्यमाण देखो सुण ।
 सुव्यय पु [सुव्यय] १ भारतवर्ष मे उत्पन्न
 बीसवें जिनदेव, मुनिमुन्नत स्वामी (ती ८,
 पत्र ३५) । २ ऐरवत वर्ष के एक भावी
 जिनदेव (सम १५८) । ३ छठवें जिनदेव के
 गणधर (१५२) । ४ एक जैन मुनि जो
 तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म मे पुत्र थे (पउम
 २०, १६२) । ५ आठवें बलदेव के धर्म-पुत्र
 (पउम २०, २०६) । ६ भगवान् पार्श्वनाथ
 का मुख्य श्रावक (कप्प) । ७ एक ज्योतिष्क
 महा-ग्रह (राज) । ८ एक दिवस का नाम
 (आवा २, १५, ५, कप्प) । ९ न एक
 गोत्र (कप्प) । १० वि सुन्दर व्रतवाला (पत्र
 ३५) । ११ गि पु [गिनि] एक दिवस का
 नाम (कप्प) ।
 सुव्यया स्त्री [सुव्यया] १ भगवान् धर्मनाथ
 की माता (सम १५१) । २ एक जैन साध्वी
 (सुर १५, २४७, महा) ।
 सुक्विआ स्त्री [दे] अम्बा, माता (दे ८, ३८) ।
 सुस देखो सुस, सुसइ व पकं न वहति
 निष्करा वरहिणी न नच्चति' (वजा १३४,
 भवि) । ३ सुसियन्व (सुर ४, २२६) ।
 सुसगद वि [सुसगत] अति सबद्ध (प्राङ्
 १२) ।
 सुसुजमिअ वि [सुसयमित] अति-नियन्त्रित
 (दे) ।
 सुसदिआ स्त्री [दे] शूला-प्रोत माँस (दे ८,
 ३६) ।
 सुसनय वि [सुसरक] अति सुन्दर, 'अहो
 जणा कुणह तन्न सुसतय' (पउम ७८, ५६) ।
 सुसनिविद्ध वि [सुसनिविद्ध] अच्छो तरह
 स्थित (सुपा १३३) ।

सुसपरिग्गाहिय वि [सुसपरिगृहीत] खूब
 अच्छी तरह ग्रहण किया हुआ (राय ६३) ।
 सुसपिणद्ध वि [सुसपिणद्ध] खूब अच्छी
 तरह बँधा हुआ (राय) ।
 सुसभत वि [सुसभान्त] अतिशय व्याकुल
 (उत्त २०, १३) ।
 सुसमिअ वि [सुसभूत] अच्छी तरह सङ्कत
 (स १८६, उप ६४८ टी) ।
 सुसमय वि [सुसमत] अच्छी तरह संमति-
 युक्त (सुर १०, ८२) ।
 सुसवुअ } वि [सुसवृत्त] १ परिगत,
 सुसवुड } व्याप्त । २ अच्छी तरह पहना
 हुआ (आवा १, १—पत्र १६, पि २१६) ।
 ३ जितेन्द्रिय । ४ रुका हुआ (उत्त २, ४२) ।
 सुसहय वि [सुसहत] अतिशय सहिल
 (श्रौप) ।
 सुसज्ज वि [सुसज्ज] अच्छी तरह तय्यार
 (सुपा ३११) ।
 सुसण्णपप देखो सुसन्नपप (राज) ।
 सुसइ वि [सुशब्द] १ सुन्दर भावाजवाला ।
 २ प्रसिद्ध, विख्यात (सुपा ५६६) ।
 सुसन्नपप वि [सुसज्ञाप्य] सुब-बोध्य (कस) ।
 सुसमत्य वि [सुसमर्थ] सुशक्त, अतिशय
 सामर्थ्यवाला (सुर १, २३२) ।
 सुसमदुस्समा } स्त्री [सुपमदुष्पमा] काल-
 सुसमदूसमा } विशेष, अवसर्पिणी काल
 का तीसरा और उत्सर्पिणी का चौथा आरा
 (इक, ठा २, ३—पत्र ७६) ।
 सुसमसुसमा स्त्री [सुपमसुपमा] काल विशेष,
 अवसर्पिणी का पहला और उत्सर्पिणी का
 छठवाँ आरा (इक, ठा १—पत्र २७) ।
 सुसमा स्त्री [सुपमा] १ काल-विशेष, अव-
 सर्पिणी का दूसरा और उत्सर्पिणी का पाँचवाँ
 आरा (ठा २, ३—पत्र ७६, इक) । २
 छन्द विशेष (पिग) ।
 सुसमाहर सक [सुसमा + ह] अच्छी तरह
 ग्रहण करना । सुसमाहरे (सुर १, ८, २०) ।
 सुसमाहिअ वि [सुसमाहित] अच्छी तरह
 समाधिसपन्न (वस ५, १, ६, उत्त २०, ४) ।
 सुसमिद्ध वि [सुसमृद्ध] अत्यन्त समृद्ध
 (नाट—मृच्छ १५६) ।

सुसर पुन [सुस्वर] १ एक देव-विमान (सप
 १७) । २ न. नामकर्म का एक भेद, जिसके
 उदय से सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह कर्म
 (सम ६७, कम्म १, २६, ५१) । देखो
 सुस्सर, सुसूर ।
 सुसा स्त्री [स्वस्] बहिन, भगिनी (सुम १,
 ३, १, १ टी) ।
 सुसा देखो सुण्हा = सुपा (कुमा) ।
 सुसागाय न [सुस्वागत] सुन्दर स्वागत
 (भग) ।
 सुसागर पुन [सुसागर] एक देव विमान
 (सम २) ।
 सुसाण न [श्मशान] मुर्दाघाट, मरघट
 (आवा १, २—पत्र ७६, हे २, ८६, स
 ५६७, आ १४, महा) ।
 सुसामण्य न [सुश्रामण्य] अच्छा साधुपण
 (उवा) ।
 सुसाय वि [सुस्वाद] स्वादिष्ठ, सुन्दर स्वाद
 वाला (पउम ८२, ६६, १०२, १२२) ।
 सुसाल पुन [सुशाल] एक देव विमान
 (सम ३५) ।
 सुसावग पु [सुश्रावर] अच्छा श्रावक—
 सुसावय } जैन गृहस्थ (कुमा, पडि, ३२१) ।
 सुसाहय देखो सुसहय (पएह १, ४—पत्र
 ७६) ।
 सुसाहु पु [सुसाधु] उत्तम पुनि (पएह २,
 १—पत्र १०१, उव) ।
 सुसिअ वि [शुषक] सूखा हुआ (सुपा २०४,
 कुम १३) ।
 सुसिअ वि [शोषित] सुखाया हुआ (महा
 वज्जा १५०, कुम १३) ।
 सुसिक्खिअ वि [सुशिक्खित] अच्छी तरह
 शिक्षा को प्राप्त (मा २०) ।
 सुसिणिद्ध वि [सुस्निग्ध] अत्यन्त लोह युक्त
 (सुर ४, १६६) ।
 सुसित्थ देखो सुत्थ = सौत्थ (ससि १२) ।
 सुसिन्न वि [सुशीर्ण] अति सडा हुआ (सुपा
 ४६६) ।
 सुसिर वि [शुषि] १ पोला, खाली । छूँछा
 (उप ७२८ टी, कुम १६२) । २ पुन एक
 देव-विमान (सम ३७) ।

भवि हम्मिहिइ, हाणहिइ (हे ४, २४४) ।
वक्क हणत (आचा, कुमा) । कवक्क हण्णु,
हणिज्जमाण, हम्मंत, हम्ममाण (सूअ १,
२, २, ५, आ १४, सुर १, ६६, विपा १,
२—पत्र २४, पि ५४०) । सक्क हता,
हंतूण, हतूण, हत्तूण, हणिरूण, हणिअ
(आचा, प्रासू १४७, प्राक्क ३४, नाट) ।
हेक्क हट्ट, हणित्त (महा, उप पृ ४८) ।
क. हतव्व (से ३, ३, हे ४, २४४,
आचा) ।

हण सक [श्रु] सुनना । हणइ (हे ४, ५८) ।

हण वि [दे] दूर, अनिकट (दे ८, ५६) ।

हण देखो हणण, 'हणवहणपयणमारण—'
(पउम ८, २३२) ।

हण देखो धण = धन (गा ७१५, ८०१) ।

हणण न [हनन] ? मारण, वध, घात (सुपा
२४५, सण) । २ विनाश (पएह २, ५—
पत्र १४८) । ३ वि. वध कर्ता । बी °णी
(कुप्र २२) ।

हणिअ वि [हत्त] जिसका वध किया गया हो
वह (आ २७, कुमा, प्रासू १६, पिग) ।

हणिअ देखो हण = हत् ।

हणिअ वि [श्रुत] सुना हुआ (कुमा) ।

हणिद देखो हणिद (गा ६६३) ।

हणिर वि [हन्ट] वध करनेवाला (सुपा
६०७) ।

हणिहणि } अ [अहन्यहनि] ? प्रतिदिन,
हणिहणि } हमेशा (पएह २, ३—पत्र
१२२) । २ सर्वथा, सब तरह से (पएह २,
५—पत्र १४८) ।

हणु वि [दे] सावशेष, वाकी बचा हुआ (दे
८, ५६ सण) ।

हणु पुत्री [हनु] चिबुक, होठ के नीचे का
भाग, ठुड़ी, ठोड़ी, दाढ़ी (आचा, पएह १,
४—पत्र ७८) । °अ, °म, °मत, °यत पु
[°मत्] हनुमान, रामचन्द्रजी का एक
प्रत्यात अनुचर, पवन तथा अञ्जनासुन्दरी
का पुत्र (पउम १, ५६, १७, १२१, ४७,
२६, हे २, १४६, कुमा, प्राप्र, पउम १६,
१५, ५६, २१) । °रह, °रुह न [°रह]

नगर-विशेष (पउम १, ६१, १७, ११८) ।
°व, °वत देखो °म (पउम ४७, २५, ५०,
६, उप पृ ३७६) ।

हणुया बी [हनुया] ? ठुड़ी, ठोड़ी, दाढ़ी
(अनु ५) । २ दंष्ट्रा-विशेष दाढ़ा-विशेष
(उपा) ।

हणू बी [हनु] देखो हणु (पि ३६८, ३६९) ।

हणु देखो हण = हत् ।

हत्त देखो ह्य = हत (पि १६४, ५६५) ।

°हत्तरि देखो सत्तरि (पि २६४) ।

हत्त वि [हर्त्त] हरण-कर्ता (प्राक्क २०) ।

हत्तूण देखो हण = हत् ।

हत्थ वि [दे] ? शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे
८, ५६) । २ क्रि वि जल्दी (ओप) ।

हत्थ पुन [हस्त] ? हाथ, 'अत्थित्तणेण
हत्थ पसारिय जस्स कएहेए' (वज्ज १०६,
आचा, कप्प, कुमा, वं ६) । २ पुं नक्षत्र-
विशेष (सम १०, १७) । ३ चौबीस अंगुल
का एक परिमाण । ४ हाथी की सूँठ (हे
२, ४५, प्राप्र) । ५ एक जैन मुनि (कप्प) ।
°कप्प न [°कल्प] नगर-विशेष (णया १,
१६—पत्र २२६, पिड ४६१) । °कम्म न
[°कर्मन्] हस्त-क्रिया, दुरचेष्टा-विशेष (सूअ
१, ६, १७, ठा ३, ४—पत्र १६२, सम
३६, कस) । °ताड, °ताल पुं [°ताड]
हाथ से ताडन (राज, कस ४, ३ टि) । °पहे-
ल्लिअ कीन [°प्रहेल्लिक] सख्या-विशेष,
शीर्षप्रकम्पित को चौरासी लाख से गुणने पर
जो सख्या लब्ध हो वह (इक) । °प्पाहुड न
[°प्राभृत्] हाथ से दिया हुआ उपहार (दे
८, ७३) । °माल्य न [°मालक] आभरण-
विशेष (ओप) । °ल्लुत्तण न [°ल्लुत्त] ?
हस्त-नाशव । २ चोरी (पएह १, ३—पत्र
४३) । °सीस न [°शीर्ष] नगर-विशेष
(णया १, १६—पत्र २०८) । °भरण न
[°भरण] हाथ का गहना (भग) । °याल
पु [°ताल] देखो °ताड (कस) । °ल्लव
पु [°ल्लम्ब] हाथ का सहारा, मदद (से
१, १६, सुर ४, ७१, कस) ।

हत्थर पु [हस्तङ्कर] वनस्पति-विशेष
(आचा २, १०, २) ।

हत्थदु } पुन [हस्तान्दुक] हाथ बांधने
हत्थदुय } का काठ आदि का बन्धन-विशेष
(पिड ५७३, विपा १, ६—पत्र ६६) ।

हत्थच्छुहणी बी [दे] नव-वधू, नवोद्या (दे
८, ६५) ।

हत्थड (अन) देखो हत्थ (हे ४, ४४५, पि
५२६) ।

हत्थय न [हस्तक] कलाप-समूह (दश०
अगत्य० सूत्र ५१ पत्र ८१) ।

हत्थल पु [दे] ? क्रीडा के लिए हाथ में ली
हुई चीज । २ वि हस्त-लोल, चञ्चल हाथ-
वाला (दे ८, ७३) ।

हत्थल वि [हस्तल] ? खराब हाथवाला ।
२ पु. चोर, तस्कर (पएह १, ३—पत्र
४३) ।

हत्थल्लिज्ज देखो हत्थिल्लिज्ज (राज) ।

हत्थल्लि वि [दे] क्रीडा से हाथ में लिया हुआ
(दे ८, ६०) ।

हत्थल्लिअ वि [दे] हस्तापसारित, हाथ से
हटाया हुआ (दे ८, ६४) ।

हत्थल्ली बी [दे] हस्त बूसी, हाथ में स्थित
आसन-विशेष (दे ८, ६१) ।

हत्थार न [दे] सहायता, मदद (दे ८, ६०) ।

हत्थारोह पुं [हस्त्यारोह] हस्तपक, हाथों
का महावत (विपा १, २—पत्र २३) ।

हत्थावार न [दे] सहायता, मदद (भवि) ।

हत्थाहत्थि बी [हस्ताहस्ति] हाथोहाथ,
एक हाथ से दूसरे हाथ (गा १७६) ।

हत्थाहत्थि अ. ऊपर देखो (गा २२६, ५८१,
पुष्क ४६३) ।

हत्थि पुत्री [हस्तिन्] ? हाथी (गा १६६,
कुमा, अभि १८७) । बी. °णी (णया १,
१—पत्र ६३) । २ पु नृप-विशेष (ती १४) ।

°आरोह पुं [आरोह] हाथी का महावत
(धर्मवि १६) । °कण्ण, °कन्न पु [°कर्ण]
२ एक अन्तर्द्वीप । २ वि उसका निवासी

मनुष्य (इक ठा ४, २—पत्र २२६) ।
°कप्प न [°कल्प] देखो हत्थ-कप्प

(राज) । °गुल्लुगुल्लुय न [°गुल्लुगुल्लुयित्त]
हाथी का शब्द-विशेष (राघ) । °णागपुर न

[°नागपुर] नगर-विशेष, हस्तिनापुर (उप
६४८ टी. सण) । °तावस पु [°तापस]

सुहग देखो सुभग (खण ४०, गा ६, नाट—मालवि २८) ।

सुहड पु [सुभट] योद्धा (सुर २, २६, कुमा, प्राप् ७४, सण) ।

सुहड वि [सुहृत] अच्छी तरह हरण किया हुआ (दस ७, ४१), ।

सुहस्थ वि [सुहस्त] १ अच्छा हाथवाला, हाथ की लघुतावाला, हाथ से शीघ्र शीघ्र काम करने में समर्थ (से १२, ५५) । २ दाता, दानशील (भवि) ।

सुहस्थि पुं [सुहस्तिन्] १ गन्ध हस्ती (रागा १, १—पत्र ७४, उवा) । २ एक जैन महावि (कप्य, पडि) ।

सुहद न [सौहार्द] १ स्नेह । २ मित्रता (भवि) ।

सुहम न [सूक्ष्म] १ फूल, पुष्प (दसनि १, ३६) । २ देखो सण्ह, सुहुम = सूक्ष्म (हे २, १०१, चड) ।

सुहम्म पुं [सुधर्मन्] १ भगवान् महावीर का पट्टधर शिष्य (विपा १, १—पत्र १) । २ बारहवें जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम १५२) । ३ एक यक्ष का नाम (विपा १, १—पत्र ४, १, २—पत्र २१) । ४ सामि पु [स्वामिन्] भगवान् महावीर का पट्टधर शिष्य (भग) । देखो सुधम्म ।

सुहम्म देखो सुहम्मा । ० वइ पुं [पति] इन्द्र (महा) ।

सुहम्ममाण वि [सुहन्यमान्] जो अच्छी तरह मारा जाता हो वह (पि ५४०) ।

सुहम्मा स्त्री [सुधर्मा] चमर आदि इन्द्रो की सभा, देव-सभा (सम १५, भग) ।

सुहय देखो सुहअ = सुख द, शुभ-द ।

सुहय देखो सुभग (गडड, सण, हेका २७२, कुमा) ।

सुहय वि [सुहृत] अच्छी तरह जो मारा गया हो वह (कुप्र २२६) ।

सुहर वि [सुभर] सुख से भरने योग्य (दस ८, २५) ।

सुहरअ देखो सुहराय (षड्) ।

सुहरा स्त्री [दे सुगहा] पत्नि-विशेष, सुधरी (से ८, ३६) ।

सुहराय पुं [दे] १ वैश्या का घर । २ चटक, नैरैया पक्षी (दे ८, ५६) ।

सुहल्ली स्त्री [दे] सुख, आनन्द (दे ८, ३६) ।

सुहव देखो सुभग (वज्जा ६६, सक्ति ६) । स्त्री, ० वी (प्राक् ३७) ।

सुहा अक [सु + भा] अच्छा लगना, 'न सुहाइ गोमईए सासू' (कुप्र ३५२) ।

सुहा देखो छुहा = सुधा (स २८२, कुमा, सण) । ० कर्मन्त न [कर्मन्त] चूने का कारखाना (आचा २, २, २, ६) । ० हार पु [हार] देव, देवता (स ७५५) ।

सुहा अक [सुखाय] १ सुख पाना ।

सुहाअ } २ सक. सुखी करना । सुहाइ, सुहाव } सुहाअइ, सुहावइ, सुहावेइ (भवि, गा ६१७, पि ५५८, से १२, ८६, वज्जा १६४, भवि, उव) । वक्क सुहाअत (से १, २८, नाट—रत्ना ६१) ।

सुहाव देखो सहाव = स्वभाव (गा ५०८, वज्जा १०) ।

सुहावण वि [सुखायन] सुख-जनक (सण, भवि) ।

सुहावय वि [सुखायक] ऊपर देखो (वज्जा ४६४, भवि) ।

सुहासिय वि [सुभाषित] १ सम्यग् उक्त (पण्ह १, १—पत्र १) । २ न सुन्दर वचन, सूक्त (स ७६१, सुपा ५१४) ।

सुहि वि [सुखिन्] सुख-युक्त (सुपा ३१२, ४३१) ।

सुहि पु [सुहद] मित्र, दोस्त (ठा ४, सुहिअ } ३—पत्र २४३, रागा १, २—पत्र ६०, उत २०, ६, सुर ४, ७६, सुपा १०७, ४१६, प्रयो ३६, सुर ३, १५४, भवि) ।

सुहिअ वि [सुखित] सुखी, सुख-युक्त (से २, ८ गा ४१८, कुप्र ४०६, उव, कुमा) ।

सुहिअ वि [सुहित] १ वृत्त (से २, ८) । २ सुन्दर हितवाला (धर्म २) ।

सुहित्र वि [सुहृष्ट] प्रति हर्षित (उप ७२८ टी) ।

सुहिर देखो सुसिर, 'भवनामतो पुहहि अतो सुहिर व चरणाचाएहि' (धर्मवि १२४, रभा) ।

सुहिरण्णा स्त्री [सुहिरण्या, ०णिया] सुहिरणिया } वनस्पति-विशेष, पुष्प प्रधान सुहिरनिया } वृक्ष-विशेष (राय ३१, राज, पण्ह १७—पत्र ५२६) ।

सुहिरिमण वि [सुहीमनस] अत्यन्त लज्जालु, अतिशय शरामिन्दा (सूअ १, ४, २, १७, राज) ।

सुहिल्लिया देखो सुहेलि, 'सुहिल्लिय अट्टु रस सुणओ' (अत १४२) ।

सुही वि [सुधी] पंडित, विद्वान् (सिरि ४०) ।

सुहुम वि [सूक्ष्म] १ वारीक, अत्यन्त छोटा । २ तीक्ष्ण (हे १, ११८, २, ११३, कुमा, जी १४) । ३ पु भारत वर्ष के एक भावी कुलकर पुष्य (सम १५३) । ४ एकैन्द्रिय जीव-विशेष (ठा ८, कम्म ४, २, ५) । ५ न. कर्म विशेष (सम ६७) । ० सपराण, ० सपराय पुन [सपराय] १ चारित्र विशेष (ठा ५, २—पत्र ३२२) । २ दशवों गुण-स्थानक (सम २६) । देखो सण्ह, सुहम = सूक्ष्म ।

सुहुय वि [सुहुत] अच्छी तरह होम किया हुआ (उप २८० टी, कप्य, औप) ।

सुहेलि स्त्री [दे. सुखकेलि] सुख, आनन्द, मजा (दे ८, ३६, पाय, गा १०८, २११, २६१, २८८, ३६८, ५५६, ८६४, स ७२) ।

सुहेसि वि [सुखैपिन्] सुखामिलायी (सुग २२७) ।

सू अ निन्दा-सूचक अव्यय (नाट) ।

सूअ सक [सूचय] १ सूचना करना । २ जानना । ३ लक्ष करना । सूएइ, सूअकि, सूएओ (विसे १३६८, स २४८, गडड, पिड ४१७) । कर्म. सूहण्णइ (गा ३२६) । वक्क-सूयत, सूययत (गडड, स ३६६) । कवक्क. सूइज्जत (वेइय ६०५) । क सूएअन्व (से १०, २८) ।

सूअ पु [सूद] रसोदया (महा) ।

सूअ पु [सूत] १ सारथि, रथ हांकेनेवाला (पात्र) । २ वि प्रसूत, जिसने जन्म दिया हो वह, 'सु(१ सू)योगेव अद्वए' (सूअ १, ३, २, ११) । ३ गड पुन [श्रुत] वृत्तराजैन भ्रग-ग्रन्थ (सूअनि २) ।

हरअई } ली [हरितकी] १ हरें का गाछ ।
हरअई } २ फल-विशेष, हरें (षड्, हे, १,
६६, कुमा) ।

हरण न [हरण] १ छीनना (सुपा १८, ४३६,
कुमा) । २ वि छीननेवाला (कुप्र ११४,
घर्मवि ३) ।

हरण न [ग्रहण] स्वीकार (कुमा) ।

हरण न [स्मरण] स्मृति, याद,

‘अलिअकुविअपि अकमअतुअव

म जेसु सुहअ अणुणोतो ।

ताण विअहाण हरणे क्खामि,

ए उणो अह कुविअ

(गा ६४१) ।

हरण देखो भरण (गा ५२७ अ) ।

हरतणु पु [हरतनु] खेत में बोये हुए गेहूँ,
जौ आदि के बालो पर होता जल-बिन्दु
(कप्प, चेइय ३७३, जी ५) ।

हरद देखो हरय (भग) ।

हरपच्छुअ वि [दे] १ स्मृत, याद किया
हुआ । २ नाम के उद्देश से दिया हुआ (दे
८, ७४) ।

हरय पु [हृद] बडा जलाशय, ब्रह (आचा,
भग, परह २, ५—पत्र १४६, उत १२,
४५, ४६, हे २, १२०) ।

हरहरा ली [दे] युक्त प्रसंग, योग्य अवसर,
उचित प्रस्ताव,

निद्धमग च गाम महिला-

धूम च सुरणय दट्टु ।

नीय च काया भोलिति

जाया भिक्खस्त हरहरा

(विसे २०६४) ।

हरहराइय न [हरहरायित] ‘हर हर’ आवाज
(परह १, ३—पत्र ४५) ।

हराविअ वि [हारित] हराया हुआ, जिसका
पराभव किया गया हो वह (हे ४, ४०६) ।

हरि पु [दि हरि] शुक, तोता (दे ८, ५६) ।

हरि पु [हरि] १ विद्युत्कुमार-देवो की दक्षिण
दिशा का इन्द्र (ठा २, ३—पत्र ८४) । २
एक महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७८) । ३
इन्द्र, देव-राज (कुमा, कुप्र २३, सम्मत

२२६, श्रु ८६) । विष्णु, श्रीकृष्ण (गा
४०६, ४११, सुपा १४३) । ५ रामचन्द्र
(से ६, ३१) । ६ सिंह, मृगेन्द्र (से ६, ३१,
कुमा, कुप्र ३४६) । ७ वानर, बन्दर (से ४,
२५, ६, २२, घर्मवि ५१, सम्मत २२२) ।
८ अश्व, घोडा (उप १०३१ टी, ती ८ कुप्र
२३, सुख ४, ६) । ९ भारत के साथ जैन
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पउम ८५, ४) ।
१० ज्योतिषशास्त्र-प्रसिद्ध एक योग, ‘गुरुहरि-
विट्ठे गंडविड्वाए’ (सबोध ५४) । ११
छन्द का एक भेद (पिंग) । १२ सपें, साँप ।
१३ भेक, मण्डक । १४ चन्द्र । १५ सूर्य ।

१६ वायु, पवन । १७ यम, जमराज । १८
हर, महादेव । १९ ब्रह्मा । २० किरण ।
२१ वर्ष-विशेष । २२ मयूर, मोर । २३
कोकिल, कोयल । २४ भट्टहरि नामक एक
विद्वान् । २५ पीला रँग । २६ पिंगल वर्ण ।
२७ हरा रँग । २८ वि. पीत वर्णवाला ।
२९ पिंगल वर्णवाला (हे ३, ३८) । ३०
हरा वर्णवाला, ‘हरिमणिसरिच्छरिणप्रसिद्ध’
(अच्छु ३२) । ३१ पुन. महाहिमवत पर्वत
का एक शिखर (ठा ८—पत्र ४३६) । ३२
विद्युत्प्रभ पर्वत का एक शिखर (ठा ६, इक) ।

३३ निषध पर्वत का एक शिखर (ठा ६—
पत्र ४५४, इक) । ३४ हरिवर्ष-क्षेत्र का
मनुष्य-विशेष (कप्प) । अद् पु [अन्द्र]
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (हे २, ८७, षड्,
गउड, कुमा) । अद्ण न [चन्दन] १
चन्दन की एक जाति (से ७, ३७, गउड,
सुर १६, १४) । २ पु एक तरह का कल्प-
वृक्ष (सुपा ८७, गउड) । देखो चद्ण ।
अण्ण देखो अद् (सक्ति १७) । आल
पुन [ताल] १ पीत वर्णवाली जघघातु-
विशेष, हरताल (खाया १, १—पत्र २४,
जी ३, पव १५५, कुमा, उत ३४, ८, ३६,
७५) । २ पु पक्षि-विशेष (हे २, १२१) ।
देखो ताल । एस पु [केरा] १ चडाल
(श्रीष ७६६, सुख ६, १, महा) । २ एक
चण्डाल मुनि (उत १२) । एसवल पु
[केशवल] चण्डालकुलोत्पन्न एक मुनि
(उव, उत १२, १) । एसिज्ज वि
[केशीय] १ चण्डाल-सवन्नी । २ हरि-

केशवल नामक मुनि का (उत १२) । कखि
न [काडिक्षन] नगर-विशेष (ती २७) ।
कत पु [कान्त] विद्युत्कुमार देवो की
दक्षिण दिशा का इन्द्र (इक) । कनपवाय,
कतपवाय पु [कान्ताप्रपात] एक ब्रह
(ठा २, ३—पत्र ७२, टी—पत्र ७५) ।
कता ली [कान्ता] १ एक महा-नदी (ठा
२, ३—पत्र ७२, सम २७, इक) । २
महाहिमवान् पर्वत का एक शिखर (इक, ठा
८—पत्र ४३६) । केलि पु [केलि]
भारतीय देश विशेष (कप्प) । केशवल देखो
एसवल (कुलक ३१) । केशि पु
[केशिन] एक जैन मुनि (श्रु १४०) ।
गीअ न [गीत] छन्द का एक भेद (पिंग) ।
गीव पु [ग्रीव] राक्षस-वश का एक
राजा (पउम ५, २६०) । चद् पु [चन्द्र]
१ विद्याधर-वश का एक राजा (पउम ५,
४४) । २ एक विद्याधर-कुमार (महा) ।
चद्ण पु [चन्दन] १ एक अन्तर्कृद् जैन
मुनि (अंत १८) । २ देखो अद्ण (प्रासू
१४५, स ३४६) । णयर न [नगर]
वैताल्य की दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक
विद्याधर-नगर (इक) । ताल पु [ताल]
द्वीप-विशेष (इक) । देखो आल । दास
पु [दास] एक वणिक का नाम (पउम ५,
८३) । धणु न [धनुष] इन्द्र-वनुष
(उप ५६७ टी) । पुरी ली [पुरी] इन्द्र-
पुरी, अमरावती, स्वर्ग (सुपा ६३५) । भद्
पु [भद्र] एक सुविख्यात जैन आचार्य तथा
ग्रन्थकार (चेइय ३४, उप १०३६, सुपा १) ।
मथ पु [मन्थ] बान्य-विशेष, काला चना
(क्षा १८, पव १५६, सबोध ४३) । मेला
ली [मेला] वृक्ष-विशेष (श्रीप) । वइ पु
[पति] वानर-पति, सुश्रीव (से १, १६) ।
वस पु [वश] एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय-कुल
(कप्प, पउम ५, २) । वस्स, वास पु
[वर्ष] १ क्षेत्र-विशेष (अणु १६१, ठा २,
३—पत्र ६७, सम १२, पउम १०२, १०६,
इक) । २ पुन. महाहिमवान् पर्वत का एक
शिखर (ठा ८—पत्र ४३६) । ३ निषध पर्वत
का एक शिखर (ठा ६—पत्र ६५४, इक) ।
वाहण पु [वाहन] १ मथुरा का एक

दीव पु [दीप] द्योप-विशेष (इक) । देव पु [देव] आगामि उत्सर्पणो-काल मे होने-वाले भारतवर्ष के दूसरे जिनदेव (सम १५३) । पत्रत्ति ली [पत्रत्ति] एक जैन उपाङ्ग-ग्रथ (ठा ३, २—पत्र १२६) । परिवेस पुं [परिवेस] मेघ आदि से होता सूर्य का वल-याकार मडल (अणु १२०) । पन्वय पु [पर्वत] पर्वत-विशेष (ठा २, ३—पत्र ८०) । पाया ली [पाया] सूर्य के किरण से होनेवाली रसोई (कुप्र ६६) । प्पभ पुन [प्रभ] एक देव-विमान (सम १०) । प्पभा, प्पहा ली [प्रभा] १ सूर्य की एक अग्र-महिषी (इक, एयाया २—पत्र २५२) । २ ग्यारहवें जिनदेव की दीक्षा-शिविका (सम १५१) । ३ आठवें जिनदेव की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । मल्लिया ली [मल्लिका] वनस्पति-विशेष (राय ७६) । मालिया ली [मालिका] भानरण-विशेष (श्रौप) । लेस पुन [लेस्य] एक देव-विमान (सम १०) । वक्कय न [वक्कण] आभूषण-विशेष (श्रौप) । वर पुं [वर] १ एक द्वीप । २ एक समुद्र (सुज्ज १६) । वरोभास पु [वरावभास] १ द्योप-विशेष । २ समुद्र-विशेष (सुज्ज १६) । वली ली [वली] लता-विशेष (पण १—पत्र ३३) । वेग पुं [वेग] एक राज-कुमार (उप १०३१ टी) । सिंग पुंन [शृङ्ग] एक देव-विमान (सम १०) । सिट्ट पुन [सिट्ट] एक देव-विमान (सम १०) । सिरी ली [श्री] सातवें चक्रवर्ती की ली (सम १५२) । सुअ पु [सुत] शनैश्चर-ग्रह (हाट—मूच्छ १६२) । भ पुन [भ] एक देव-विमान (सम १४, पव २६७) । वत्त पुन [वत्त] एक देव-विमान (सम १०) । देखो सुज्ज ।

सूरग पु [दे] प्रदीप, दीपक (दि ८, ४१, षड्) ।

सूरगय पु [सुराङ्गज] एक राजा (उप १०३१ टी) ।

सूरण पुं [द. सुरण] कन्द-विशेष, सुरन, श्रोल (दि ८, ४१, पण १—पत्र ३६, उत ३६ ६६, पचा ५, २०) ।

सूरद्वय पु [दे] दिन, विवत्त (दि ८, ४२, षड्) ।

सूरलि पुत्री [दे] १ मध्याह्न, दुपहर का समय (दि ८, ५७, षड्) । २ कोट-विशेष, मशक के समान आकृतिवाला कोट (दि ८, ५७) । ३ तुण-विशेष, ग्रामणी नामक तुण (दि ८, ५७, जीव ३, ४, राय) ।

सूरि पु [सुरि] आचार्य (जी १, सण) ।

सूरिअ वि [भन्न] भाँगा हुआ (कुमा) ।

सूरिअ देखो सुज्ज (हे २, १०७, सम ३६, भग, उप ७२८ टी) । क्त पु [कान्त] प्रदेश-नामक राजा का पुत्र (भग ११, ६—पत्र ५१४, कुप्र १४३) । कता ली [कान्ता] प्रदेशी राजा की पत्नी (कुप्र १४६) । पाग पुत्री [पाग] सूर्य के ताप से होनेवाली रसोई (कुप्र ७०) । ली गा (कुप्र ६८) । लेसा ली [लेसा] सूर्य की प्रभा (सुज्ज ५—पत्र ७६) । भ पुं [भ] १ प्रथम देव लोकका एक देव (राय १४, धर्मवि ६) । २ पुंन एक देव-विमान । ३ न सूर्याभ देव का सिंहासन (राय १४) । वत्त पु [वत्त] मेघ पर्वत (सुज्ज ५, इक) । वरण पु [वरण] मेघ पर्वत (सुज्ज ५, इक) ।

सूरिल पुं [दे] श्वशुर पक्ष (?), 'महत मे सश्रोयण ति साहिकण सुरिलसस समागभो चप' (स ५१०) ।

सूरिस देखो सुजरिस (हे १, ८) ।

सूरुत्तरवडिसग पुन [सूरुत्तरावत्तसक] एक देव-विमान (सम १०) ।

सूरुलि देखो सूरलि (राय ८० टी) ।

सूरुद पु [सूरुद] एक समुद्र (सुज्ज १६) ।

सूरुदय न [सूरुदय] नगर विशेष (पउम ८, १८६) ।

सूरुवराग पु [सूरुवराग] सूर्य-ग्रहण (भग) ।

सूरु पुन [सूरु] १ लोहे का सुतीक्ष्ण कांटा, शूली (विपा १, ३—पत्र ५३, श्रौप) । शल-विशेष, त्रिशूल (पण १, १—पत्र १८, कुमा) । २ रोग-विशेष (प्रासू १०५) । ४ बबूल आदि का तीक्ष्ण अग्र भागवाला कांटा

(कुप्र ३७) । पु. व. देश-विशेष (पउम ६८, ६५) । पाणि पु [पाणि] यक्ष-विशेष (कर्म ५) । वर पुं [वर] शिव, महादेव (पिग) ।

सूरुच्छ न [दे] पल्लव, छोटा तालाव (दि ८, ४२) ।

सूरुथारी ली [दे] चण्डी, पावती (दि ८, ४२) ।

सूरु ली [सूरु] शूली, सुतीक्ष्ण लोह-कटक (गा ६४, उप ३३६ टी, धर्मवि १३७) । इय वि [चित, तिग] शूली पर चढाया हुआ (एयाया १, ६—पत्र १५७, १६३, राय १३४) ।

सूरु ली [दे] वेश्या, वारागना (दि ८, ४१) ।

सूरु वि [सूरु] १ शूल-रोगवाला, 'जह विदल सूरुलीण' (वि ३) । २ पु शिव, महादेव (पात्र) ।

सूरु ली [सूरु] शूली, जिसपर वध को चढाया जाता है (पण १, १—पत्र ८) ।

सूरु पु [सूरु] दाल (उवा, श्रौष ७१४, वाट ६, पिड ६२४, पचा १०, ३७) । यार, रार पु [कार] रसोईया, रसोई बननेवाला नौकर (पउम ११३, ७, सुर १६, ३८, उप ३०२) ।

सूरु अक [शुप्] सुखना । सुपइ, सुसत्त, सुसइरे (हे ४, २३६, प्राक ६८, कुमा ३७४, हे ३, १४२) ।

सूरु सर वि [सुस्वर] १ सुन्दर आवाजवाला (सुर १६, ४६) । २ न नामकर्म का एक नेद, जिससे सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो वह कर्म (धर्मस ६२०, आवक २३, कम्म २, २२) । परिवारिणी ली [परिवारिणी] एक तरह की वीणा (पण २, ५—पत्र १०६) ।

सूरु सास वि [सोच्छवास] ऊर्ध्व श्वासवाला (हे १, १५७, कुमा) ।

सूरु सिय वि [गोपित] सुखाया हुआ (सुर १५, २४८) ।

जिसने भगवान् आदिनाथ को इक्षु-रस से प्रथम पारणा कराया था (कप्प, कुप्र २१२) । ३ मार्गशीर्ष मास का लोकोत्तर नाम (सुख १०, १६) । ४ भगवान् महावीर का पिता, राजा सिद्धार्थ (भाचा २, १५, ३) । देखो सिजस, सेअस = श्वेयास ।

सेजस देखो सेअस = श्वेयास (भावम) ।

सेज्जा बी [शय्या] १ सेज, विद्यौना (से १, ५७, कुमा) । २ मकान, घर, वसति, उपाश्रय (पव १५२, सुख १, १५) । ३ यर पु [०तर] गृह-स्वामी, उपाश्रय का मालिक, साधु को रहने के लिए स्थान देनेवाला गृहस्थ (ओष २४२, पव ११२, पचा १७, १७) । ४ वाल पु [०पाल] शय्या का काम करनेवाला चाकर (सुपा ५८७) । देखो सिज्जा ।

सेज्जारिअ न [दे] अन्दोलन, हिंडोले में झूलना (दे ८, ४३) ।

सेड्डि पु [दे श्रेष्ठिन्] गाँव का मुखिया, सेठ, महाजन (दे ८, ४२, सम ५१, णाय १, १—पत्र १६, उवा) ।

सेडिय न [दे] तुण-विशेष (परण १—पत्र ३३) ।

सेडिया बी [दे सेटिका] सफेद मिट्टी, लडो (भाचा २, १, ६, ३) ।

सेडि बी [श्रेणि] देखो सेडो = श्रेणी (सुर ३, १७, ५, १६६) ।

सेडिया } देखो सेडिया (दस ५, १, ३४,
सेडो } जो ३) ।

सेडो बी [श्रेणी] १ पक्ति (सम १४२, महा) । २ राशि (अणु) । ३ असख्य योजन-कोटाकोटी की एक नाप (अणु १७३) । देखो सेणि ।

सेण पु [इयेन] १ पक्ति-विशेष (पउम ८, ७६, दे ७, ८४, वै ७४) । २ विद्याधर-वश का एक राजा (पउम ५, १५) ।

सेण देखो सेण्ण, भण्णारवइणो मरणे मरति सेण्णइ इदियमयाई (भाचा ६०) ।

सेणा बी [सेना] १ भगवान् संभवनाथजी की माता (सम १५१) । २ लश्कर, सैन्य (कुमा) । ३ एक जैन साध्वी, जो महाधि-स्थुलभद्र की बहिन थी (कप्प, पडि) । ४ वह

लश्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, ६ घोड़े और १५ प्यादे हो (पउम ५६, ५) । ५ णिय, ०जी, ०णोय पु [०नी] सेना-पति, लश्कर का मुखिया, 'सेणाणियाओवि ताहे वेत्तूण जिणोसरं सुरवइस्स' (पउम ३, ७७, सुपा ३००, धर्मवि ८४, पउम ६४, २०) । ६ सुह न [०मुख] वह सेना जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़े और ४५ प्यादे हो (पउम ५६, ५) । ७ वइ पु [०पति] सेना का मुखिया, सेना-नायक (कप्प, पउम ३७, २, सम २७, सुपा २५५) । ८ हिवइ पु [०धिपति] वही पूर्वोक्त अर्थ (सुपा ७३) । ९ सेणावच्च न [सेनापत्य] सेनापतिपन, सेना का नेतृत्व (कप्प, औप) ।

सेणि बी [श्रेणि] १ पक्ति । २ समूह (महा) । ३ कुम्भकार आदि मनुष्य-जाति (णाय १, १—पत्र ३७) ।

सेणिय पु [श्रेणिक] १ मगध देश का एक प्रख्यात राजा (णाय १, १—पत्र ११, ३७, ठा ६—पत्र ४५५, सम १५४, उवा, अत, पउम २, १५, कुमा) । २ एक जैन मुनि (कप्प) ।

सेणिया बी [सेणिका] एक जैन मुनि-शाखा (कप्प) ।

सेणिया } बी [सेनिका] छन्द का एक
सेणिका } भेद (पिंग) ।

सेणिय देखो सेणिय (सबोध ३५) ।

सेणिय पु [सैनिक] लश्करी सिपाही (स ३८१) ।

सेणी बी [श्रेणी] देखो सेणि (महा, णाय १, १) ।

सेण्ण देखो सिज्ज = सैन्य (णाय १, ८—पत्र १४६, गउड) ।

सेत्त देखो सिज्ज = सिक्त (कुप्र १६) ।

सेत्त (अप) देखो सेअ = श्वेत (पिंग) ।

सेत्तुज पु [शत्रुञ्जय] एक प्रसिद्ध पर्वत (णाय १, १६—पत्र २२६, अत) ।

सेद्द देखो सेअ = स्वेद (दे ४, ३४, स्वप्न ५६) ।

सेध देखो सेह = सेह (जीव २—पत्र ५२) ।

सेज्ज देखो सिज्ज = सैन्य (दे १, १५०, कुमा, सण, सुर १२, १०४ टि) ।

सेप्फ } देखो सेम्ह (हे २, ५५, पड, कुमा,
सेफ } प्राक्क २२) ।

सेफ पुन [श्रेफ] पुरुष-चिह्न, लिंग (प्राक्क १४) ।
सेभालिआ बी [श्रेफालिका] लता विशेष (हे १, २३६, प्राक्क १४) ।

सेमुसी } बी [श्रेमुसी] मेघा, बुद्धि (राज,
सेमुही } उप पृ ३३३, हम्मीर १४, २२) ।

सेम्ह पु बी [श्लेष्मन्] कफ, सेम्हा गह्वं (प्राक्क २२, पि २६७) ।

सेर वि [स्वैर] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, स्वच्छ (स्वप्न ७७, विक्र ३७) ।

सेर वि [स्मेर] विकस्वर (हे २, ७८, कुमा) ।

सेर पु [दे] सेर, परिमाण-विशेष (पिंग) ।

सेरधी बी [सैरन्धी] बी-विशेष, ग्रन्थ के घर में रहकर शिल्प-कार्य करनेवाली स्वतन्त्र बी (कप्प) ।

सेराह पु [दे] अश्व की एक उत्तम जाति (सम्मत्त २१६) ।

सेरिअ पु [दे] धुयं वृषभ, गाड़ी का बैल (दे ८, ४४) ।

सेरिअ देखो सेरिह (सुख ८, १३, दे ८, ४४ टी) ।

सेरिय पु बी [दे] वाद्य-विशेष, 'करडिअभ सेरियइहक्काहि' (सण) ।

सेरियय पु [दे] गुल्म-विशेष (परण १—पत्र ३२) ।

सेरिह पु बी [सैरिअ] मैसा, महिष (गा १७२, ७४२, नाट—मुच्छ १३५) । बी, ०ही (पात्र) ।

सेरी बी [दे] १ लम्बी आकृति । २ अन्न आकृति (दे ८, ५७) । ३ रथ्या, मुहल्ला (तिरि ३१८) । ४ यन्त्र निर्मित नत्की (राज) ।

सेरीस पु न [सेरीश] एक गाँव का नाम (ती ११) ।

सेल पु [शैल] १ पर्वत, पहाड़ (सि २, ११, प्राप्र, सुर ३, २२६) । २ पाषाण, पत्थर (उप १०३१) । ३ न पत्थरो का समूह (सि ६, ३१) । ४ कार पु [कार] पत्थर चढ़ने-वाला शिल्पी, शिलावट (अणु १४६) । ५ गिह न [गृह] पर्वत में बना हुआ घर (कप्प) । ६ जाया बी [जाया] पार्वती

सेहणा स्त्री [शिक्षणा] शिक्षा, सजा, कदर्थना, 'वहवधमारण्यसेहणाओ कामो परिगमहे नत्थि' (उव)।

सेहर पु [शेखर] शिखा, 'फलसेहरा' (पिड १६५, पात्र)। २ छन्द-विशेष (पिंग)। ३ मस्तक-स्थित माला (कुमा)।

सेहरय पुं [दे] चक्रवाक पक्षी (दे ८, ४३)।

सेहाळिआ देखो सेभाळिआ (स्वप्न ६३, गा ४१२, कुमा, हे १, २३६)।

सेहाळी स्त्री [शेफाली] लता-विशेष (दे ५, ४)।

सेहाव देखो सेह = शिक्षय्। सेहावेइ (पि ३२३)। भवि, सेहावेहि (भौप)। सक, सेहावेत्ता (पि ५८२)। हेइ सेहावेत्तप (कस)। क, सेहावेयव (भत १६०)।

सेहाविअ वि [शिक्षित] सिखाया हुआ (भग, याया १, १—पत्र ६०, पि ३२३)।

सेहि देखो सिद्धि (आचा)।

सेहिअ वि [सैद्धिक] १ मुक्ति-सम्बन्धी। २ निष्पत्ति-सम्बन्धी (सूत्र १, १, २, २)।

सेहिऊ वि [दे] गत, गया हुआ (दे ८, १)।

सो सक [सु] १ दारू बनाना। २ पीडा करना। ३ मन्यन करना। ४ अक स्नान करना। सोइ (षड्)।

सो } अक [स्वप्] सोना, सूतना। सोइ, सोअ } सोअइ (धात्वा १५७, प्राक ६६)।

सोअ सक [शुच्] १ शोक करना। २ शुद्धि करना। सोअइ, सोएइ, सोइति, सोयति (से १, ३८, हे ३, ७०, आचा, अक १७४, १७५, सूत्र २, २, ५५)। वक सोइत्त, सोएत्त (उव १४६ टी, पउम ११८, ३५)। कवक, सोइज्जत्त (सण)। क सोअणिज्ज, सोअणीअ, सोइयव्व (अभि १०५, सूक ४७, पउम ३०, ३५)। देखो सोच = शुच्।

सोअ न [शौच] १ शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता (आचा, भौप, सुर २, ६२, उप ७६८ टी, सुपा २८१)। २ चोरी का अनाव, पर-अव्य का अहरण (सम १२०, नव २३, आ ३१)।

सोअ पु [शोक] अफनोस, दिलगोरी (सुर १, ५३, गउड, कुमा, महा)।

सोअ न [श्रोत्र] कान, श्रवणेन्द्रिय (आचा, भग, भौप, सुर १, ५३)। १ मय वि [मय] श्रोत्रेन्द्रिय-जन्य (ठा १०—पत्र ४७६)।

सोअ पुंन [स्रोतस्] १ प्रवाह (आचा, गा ६६२)। २ छिद्र (भौप)। ३ वेग (याया १, ८)।

सोअण न [स्वपन] शयन (उव)।

सोअण न [शोचन] १ शोक, दिलगोरी (सूत्र २, २, ५५, सवोष ४६)। २ शुद्धि, प्रक्षालन (स ३४८)।

सोअणया } स्त्री [शोचना] १ ऊपर देखो सोअणा } (भौप, अक १७४)। २ दोनता, दैन्य (ठा ४, १—पत्र १८८)।

सोअमल्ल न [सौकुमार्य] सुकुमारता, अति-कोमलता (हे १, १०७, प्राप्र, कुमा)।

सोअर पुं [सोदर] सगा भाई (प्रबो २६, सुपा १६३, रंभा)।

सोअरा स्त्री [सोदरा] सगी बहन (कुमा)।

सोअरिअ वि [शौकारिक] १ शूकरो का शिकार करनेवाला (विपा १, ३—पत्र ५४)। २ शिकारी, मृगया करनेवाला। ३ कसाई (पिड ३१४, उव, सुपा २१४)।

सोअरिअ वि [सोदर्य] सहोदर, एक उदर से उत्पन्न (सूत्र १, १, १, ५)।

सोअल्ल देखो सोअमल्ल (सवि २)।

सोअविय स्त्रीन [शौच] शुद्धि, पवित्रता (सूत्र २, १, ५७)। स्त्री. 'या (आचा)।

सोअव्व देखो सुण = शु।

सोआमणी } स्त्री [सौदामिनी, 'मिनी] १ सोआमिणी } विद्युत्, बिजली (उत्त २२, ७, पउम ७४, १४, स १२, महा, पात्र)। २ एक दिक्कुमारी देवी (इक, ठा ४, १—पत्र १६८)।

सोइअ न [शोचित] चिन्ता, विचार (सुर ८, १४, सुपा २६६)। देखो सोचिय।

सोइदिय न [श्रोत्रेन्द्रिय] श्रवणेन्द्रिय, कान (भग)।

सोइधिय देखो सोगधिय (इक)।

सोइ वि [श्रोत्] सुननेवाला (स ३, प्रासू २)।

सोउणिय देखो सोवणिय (सूत्र २, २, २८, पि १५२)।

सोउमल्ल देखो सोअमल्ल (अभि २१३, सुर ८, १२५)।

सौंड देखो सुंड (पात्र)। १ मगर पुं [मक] मगर की एक जाति (पएण १—पत्र ४८)।

सौंडा स्त्री [शुण्डा] १ सुरा, दारू (आचा २, १, ३, २)। २ हाथी की नाक, सूंड (उवा)।

सौंडिय पुं [शौण्डिक] दारू बेचनेवाला, कलवार (अभि १८८)।

सौंडिया स्त्री [शुण्डिका] दारू का पात्र विशेष (ठा ८—पत्र ४१७)।

सौंडीर वि [शौण्डीर] १ शूर, वीर, पराक्रमी (कप्प, सुर २, १३४, सुपा ६०)। २ गर्व युक्त, गर्वित (महा)।

सौंडीर न [शौण्डीर्य] १ पराक्रम, शूता। २ गर्व (हे २, ६३, षड्)।

सौंडीरिम पुं स्त्री [शौण्डीरिमन्] ऊपर देखो (सुपा २६२)।

सौंदज्ज (शौ) देखो सुदेर (पि ८५)।

सोइ देखो सुक्क = शुक्क (षड्)।

सोक्ख देखो सुक्ख = सौख्य (प्राक १०, गा १५८, सुपा ७०, कुमा)।

सोक्ख देखो सुक्ख = शुक्क (षड्)।

सोग देखो सोअ = शोक (पउम २०, ४५, सुर २, १४०, स २५५, प्रासू ८३, उव)।

सोगध } न [सौगन्ध्य] १ लगातार सोगधिय } चौबीस दिनों के उपवास (सवोष ५८)। २ सुगन्धित, सुगन्ध, 'सोगधिय परिकल्पिय तवील' (सम्मत २२०)।

सोगधिय न [सौगन्धिक] १ रत्न विशेष, रत्न की एक जाति (याया १, १—पत्र ३१, पएण १—पत्र २६, उत्त ३६, ७७, कप्प, कुम्मा १५)। २ रत्नप्रसा नामक नरक-पृथिवी का एक सौगन्धिक-रत्न-भय नाएड (सम ८६)। ३ कड्डार, पानी में होनेवाला श्वेत कमल (सूत्र २, ३, १८, राय ८२)। ४ पुं नपुंसक का एक भेद, धरने तिग को सूँघनेवाला नपुंसक (पव १०६, पुष्प १२८)। ५ पुंन एक देव-विमान (वेन्द १४२)। ६ वि सुगन्धवाला, सुगन्धी (उवा, सम्मत २२०)।

सोमिय देखो सोहिअ = शोभित (शाया १, १ टी—पत्र ३) ।

सोम पु [सोम] १ चन्द्र, चाद, एक ज्यो-
तिष्क महाग्रह (ठा २, ३—पत्र ७७, विते
१८८३, गउड) । २ भगवान् पारवनाथ का
पाचवाँ गणधर (सम १३, ठा ८—पत्र
४२६) । ३ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंश (पउम
५, २) । ४ चतुर्थ बलदेव और वासुदेव का
पिता (ठा ६—पत्र ४४७, पउम २०,
१८२) । ५ एक विद्याधर नर-पति, जो
ज्योति पुर का स्वामी था (पउम ७, ४३) ।
६ एक सेठ का नाम (सुपा ५६७) । ७ एक
ब्राह्मण का नाम (शाया १, १६—पत्र
१६६) । ८ चमरेन्द्र, बलीन्द्र, सौधमन्द्र तथा
ईशानेन्द्र के एक-एक लोकपाल के नाम (ठा
४, १—पत्र २०४, भग ३, ७—पत्र
१६४) । ९ लता-विशेष, सोमलता । १०
उसका रस । ११ अमृत (षड्) । १२ आर्य-
सुहृत्ति सूरि का एक शिष्य—जैन मुनि
(कप्प) । १३ पुंन. देव-विमान-विशेष (वेन्द्र
१३३, १४३, १४५) । १४ वि कीर्त्तिमान्,
यशस्वी (कप्प) । १५ काइय पु [कायिक]
सोम लोकपाल का आज्ञाकारी देव (भग ३,
७—पत्र १६५) । १६ गहण न [ग्रहण]
चन्द्र-ग्रहण (हे ४, ३६६) । १७ चद पु
[चन्द्र] १ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न सातवें
जिन-देव (सम १५३) । २ आचार्य हेमचन्द्र
का दीक्षा समय का नाम (कुप्र २१) । ३ जस
पु [यशस्] एक राजा (सुर २, १३४) ।
४ गहा देखो नाह (राज) । ५ दत्त पु
[दत्त] १ एक ब्राह्मण का नाम (शाया १,
१६—पत्र १६६) । २ एक जैन मुनि, जो भद्र-
बाहु-स्वामी का शिष्य था (कप्प) । ३ भगवान्
चन्द्रप्रभ स्वामीको प्रथम भिक्षा-दाता गृहस्थ
(सम १५१) । ४ राजा शतानीक का एक
पुरोहित (विपा १, ५—पत्र ६०) । ५ देव पु
[देव] १ सोम नामक लोकपाल का सामा-
निक देव (भग ३, ७—पत्र १६५) । २
भगवान् पद्मप्रभ को प्रथम भिक्षा-दाता गृहस्थ
(सम १५१) । ३ नाह पु [नाथ] सौराष्ट्र
देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मूर्ति (ती १५,
सम्मत ७५) । ४ प्पभः प्पह पु [प्रभ]

१ क्षत्रियो के सोमवंश का आदि पुरुष, बाहु-
बलि का एक पुत्र (पउम ५, १०, कुप्र
२१२) । २ तेरहवीं शताब्दी का एक जैन
आचार्य और ग्रंथकार (कुप्र ११५) । ३
चमरेन्द्र के सोम लोकपाल का उत्पात पर्वत
(ठा १०—पत्र ४८२) । ४ भूइ पु [भूति]
एक ब्राह्मण का नाम (शाया १, १६—पत्र
१६६) । ५ भूइय न [भूतिक] एक कुल
का नाम (कप्प) । ६ थ न [थ] एक गोत्र,
जो कौत्स गोत्र की शाखा है (ठा ७—पत्र
३६०) । ७ वा, वि [प, पा] सोम-
रस पीनेवाला (पड्) । ८ सिरी वी [श्री]
एक ब्राह्मणी (अत) । ९ सुडर पु [सुन्दर]
एक प्रसिद्ध जैनाचार्य तथा ग्रन्थकार (सति
१४, कुलक ४४) । १० सूरि पु [सूरि] एक
जैनाचार्य, आराधना-प्रकरण का कर्ता एक
जैनाचार्य (आप ७०) ।

सोम वि [सौम्य] १ अरौर, अनुग्र (ठा ६,
भग १२, ६—पत्र ५७८) । २ नीरोग,
रोग-रहित (भग १२, ६) । ३ प्रशस्त,
श्लाघ्य (कप्प) । ४ प्रिय दर्शन, जिसका
दर्शन प्रिय मालूम हो वह । ५ मनोहर,
सुन्दर । ६ शान्त आर्द्रतिवाला (श्रीधभा २२,
उव, सुपा १८०, ६२२) । ७ शोभा-युक्त,
दीप्तिमान् (ज २) । देखो सोम्म ।

सोमइअ वि [दे] सोने की आदतवाला (दे
८, ३६) ।

सोमगल पु [सौमङ्गल] द्विन्द्रिय जन्तु की
एक जाति (उच ३६, १२६) ।

सोमणत्तिय वि [स्वापनान्तिक, स्वाप्ना-
न्तिक] १ सोने के बाद किया जाता प्रति-
क्रमण—प्रायश्चित्त-विशेष । २ स्वप्न-विशेष
में किया जाता प्रतिक्रमण (ठा ६—पत्र
३७६) ।

सोमणस पुं [सौमनस] १ महाविदेह-वंश
का एक वंशस्कार-पर्वत (ठा २, ३—पत्र
६६, सम १०२, ज ४) । २ उस पर्वत पर
रहनेवाला एक महाद्विक देव (ज ४) । ३
पक्ष का आठवाँ दिन (सुज्ज १०, १४) ४
पुंन सनकुमार नामक इन्द्र का एक पारि-
यातिक विमान (ठा ८—पत्र ४३७, श्रौप) ।

५ एक देव-विमान, छठवाँ त्रैवेक विमान
(वेन्द्र १३७, १४३, पव १६४) । ६ सोम
नस-पर्वत का एक शिखर (ठा २, ३—पत्र
८०) । ७ न मेरु-पर्वत का एक वन (ठा २,
३—पत्र ८०) ।

सोमणस न [सौमनस्य] १ सुन्दर क-
सतुष्ट मन (राय, कप्प) ।

सोमणसा वी [सौमनसा] १ जन्म-द्वय
विशेष, जिससे यह द्वीप जन्मद्वीप कहलाता
है (इक) । २ एक राजधानी (इक) । ३
सौमनस वन की एक वापी (ज ४) । ४
पक्ष की पांचवी रात्रि (सुज्ज १८, ४४) ।
सोमणसिय वि [सौमनसियत्] १ सतुष्ट
मनवाला । २ प्रशस्त मनवाला (कप्प) ।
सोमणस्स देखो सोमणस = सोमनस्य (कप्प,
श्रौप) ।

सोमणस्सिय देखो सोमणसिय (कप्प, श्रौप,
शाया १, १—पत्र १३) ।

सोमल देखो सोअमल (प्राक् २०, ३०) ।
सोमहिंद न [दे] उदर, पेट (दे ८, ४५) ।
सोमहिड्ड पु [दे] पक्ष, कादा (दे ८, ४३) ।
सोमा वी [सोमा] १ शक्र के सोम आदि
चारो लोकपालो की एक एक पटरानी का
नाम (ठा ४, १—पत्र २०४) । २ सातवें
जिनदेव की प्रथम शिष्या (सम १५२, पव
६) । ३ सोम लोकपाल की राजधानी (भा
३, ७—पत्र १६५) ।

सोमा वी [सौम्या] उत्तर दिशा (ठा १०—
पत्र ४७८, भग १०, १—४६३) ।

सोमाण न [इमसान] मसान, मरघट (दे ८,
४५) ।

सोमाणस पु [सौमानस] सातवाँ त्रैवेक
विमान (पव १६४) ।

सोमर } देखो सुकुमार (गा १८६, ष
सोमाल } ३५६, नै ७, पड्, प्राप्र, हे १,
१७१, कुमा, प्राक् २०, ३८, श्रवि) ।

सोमाल न [दे] मांस (दे ८, ४४) ।
सोमिति पु [सौमित्रि] राम भ्राता लक्ष्मण
(गा ३५) ।

सोमिति वी [सुमित्रा] लक्ष्मण की माता ।
"पुत्त पु [पुत्र] लक्ष्मण, "रामसायित्त-
पुत्ता" (पउम ३८, ५७) "सुय पु [सुव]
वही अर्थ (पउम ७२, ३) ।

सोवरी स्त्री [शाम्बरी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

सोववन्तिअ वि [सोपपत्तिक] सद्युक्तिक, युक्ति-युक्त (उप ७२८ टी) ।

सोवाअ वि [सोपाय] उपाय-साध्य (गउड) ।

सोवाग पुं [श्वपाक] चाण्डाल, डोम (प्राचा, ठा, ४, ४—पत्र २७१, उत १३, ६, उव, सुपा ३७०, कुप्र २६२, उर १, १५) ।

सोवागी स्त्री [श्वपाकी] विद्या-विशेष (सूत्र २, २, २७) ।

सोवाण न [सोपान] सीढी, निसेनी, पैडी (सम १०६, गा २७८, उव, सुर १, ६२) ।

सोवासिणी देखो सवासिणी (भवि) ।

सोविअ वि [स्वापित] सुजाया हुआ, शायित, 'कमलकिसलयरदए सत्थरए सोविओ तेए' (सुर ४, २४४, उप १०३१ टी) ।

सोवियल्ल पुत्री [सौविदल्ल] शन्त पुर का रक्षक (गउड) । स्त्री ०ली (सुपा ७) ।

सोवीर पुं ब [सौवीर] १ देश-विशेष (पव २७५, सूत्र १, ५, १, १—टी) । २ न काजिक, कांजी (ठा ३, ३—पत्र १४७, पाष) । श्रवण-विशेष, सौवीर देश में होता सुरमा (जी ४) । ४ मद्य-विशेष (कस) ।

सोवीरा स्त्री [सौवीरा] मध्यम ग्राम की एक मूछना (ठा ७—पत्र ३६३) ।

सोव्व वि [दे] पतित-दन्त, जिसका दाँत गिर गया हो वह (दे ८, ४५) ।

सोस सक [शौपय] सुखाना, शोषण करना । सोसइ (भवि) । वक्क सोसयत (कप्प) ।

सोस देखो सुस्स । सोसउ (हे ४, ३६५) ।

सोस पु [शोष] १ शोषण (गउड, प्रासू ६४) । २ रोग-विशेष, दाह रोग (लहुअ १५) ।

सोसण पु [दे] पवन, वायु (दे ८, ४५) ।

सोसण न [शोपण] १ सुखाना । २ कामदेव का एक बाण (कप्प) । ३ वि. शोषण-कर्ता, सुखानेवाला (पउम २८, ५, कुप्र ४७) ।

सोसणया } स्त्री [शोपणा] शोषण (उवा, सोसणा } उत ३, ५) ।

सोसणी स्त्री [दे] कटी, कमर (दे ८, ४५) । सोसविअ वि [शोषित] सुखाया हुआ (हे ३, १५०, उव) ।

सोसाव देखो सोस = शोपय । हेक्क सोसावेडु (शौ) (नाट) ।

सोसास वि [सोच्छवास] ऊर्ध्वं श्वास-युक्त (षड्) ।

सोसिअ देखो सोसविअ (हे ३, १५०, सुर ३, १८६, महा) ।

सोसिअ वि [सोच्छ्रित] ऊँचा किया हुआ (कप्प) ।

सोसिल्ल वि [शोफवत्] शोफ युक्त, सूजन रोगवाला (विपा १, ७—पत्र ७३) ।

सोह अक्र [शुभ्] शोभना, चमकना । सोहइ, सोहए सोहति (हे १, १८७, पात्र, कुमा) । वक्क सोहत्त, सोहमाण (कप्प, सुर ३, १११, नाट—उत्तर ८) ।

सोह सक [शोभय] शोभा युक्त करना । सोहेइ (उवा) ।

सोह सक [शोधय] १ शुद्धि करना । २ खोज करना, गवेषणा करना । ३ सशोधन करना । सोहेइ (उव) । वक्क 'लूसिअ सगिह दटुं सोहितो दइअ निअ' (आ १२) । सोहेमाण (उवा, विपा १, १—पत्र ७) । कवक्क. सोहिज्जत्त (उप ७२८ टी) । क सोहणीअ, सोहेयव्व (शाया १, १६—पत्र २०२, नाट—शकु ६६, सुपा ६५७) । सक सोहइत्ता (उत २६, १) ।

सोह देखो सउह = सौव (सन्नि ६१, प्रति ४१, नाट—मालती १३८) ।

सोहजण पु [दे शोभाञ्जण] बुल-विशेष, साहिजने का पेट (दे ८, ३७, कप्प) ।

सोहग देखो सोभग (कप्प ३८ टी) ।

सोहग पु [शोधक] धोबी, रजक (उप पु २४१) । देखो सोहय = शोषक ।

सोहग न [सौभाग्य] १ सुभगता, लोक-प्रियता (श्रौप, प्रासू ६६) । २ पति-प्रियता (सुर ३, १८१, प्रासू ८५) । ३ सुन्दर भाग्य (उप पु ४७, १०८) । कप्पसुख पु [कल्पवृक्ष] तप-विशेष (पव २७६) । गुलिया स्त्री [शुटिका] सौभाग्य-जनक मन्त्र-विशेष से सञ्चत गोली (सुपा ५६७) ।

सोहग्गजण न [सौभाग्याञ्जन] सौभाग्य-जनक अजण (सुपा ५६७) ।

सोहग्गिअ वि [सौभागित] भाग्य शाली, सुन्दर भाग्यवाला (उप पु ४७, १०८) ।

सोहण पु [शोभन] १ एक प्रसिद्ध जैन मुनि (सम्मत्त ७५) । २ वि. शोभा-युक्त, सुन्दर (सुर १, १४७, ३, १८५, प्रासू १३२) । स्त्री. ंणा, ंणी (प्राक् ४२) । 'वर न [वर] वैताळ्य की उत्तर श्रेणि का एक विद्याघर-नगर (इक) ।

सोहण न [शोधन] १ शुद्धि, सफाई (उ ५६७ टी, सुज्ज १०, ६ टी, कप्प) । २ वि. शुद्धि-जनक (आ ६) ।

सोहणी स्त्री [दे] समार्जनी, काडू (दे ८, १७) ।

सोहद न [सौहद] १ मित्रता । २ कथुला (अभि २१८, अचु ५:८) ।

सोहम्म देखो सुधम्म, सुहम्म = सुधर्म (सम १६) ।

सोहम्म पु [सौधर्म] प्रथम देवलोक (सम २, राय, अणु) । कप्प पु [कल्प] पहला देवलोक, स्वर्ग-विशेष (महा) । 'वइ पु [पति] प्रथम देवलोक का स्वामी, शक्रेंद्र (सुपा ५१) । 'वडिंसय पुन [वतसक] एक देव-विमान (सम ८, २५, राय ५६) । सामि पु [स्वामिन्] प्रथम देवलोक का इन्द्र (सुपा ५१) ।

सोहम्म° देखो सुहम्मा (महा) ।

सोहम्मण देखो सोहण = शोधन, 'एयणं पि गुणुक्करिस उवेइ सोहम्मणुणोण' (कम्म ६, १ टी) ।

सोहम्मिद पु [सौधर्मन्ट] शक्र, प्रथम देव लोक का स्वामी (महा) ।

सोहम्मिय वि [सौधर्मिक] सौधर्म-देवलोक का (सण) ।

सोहय वि [शोधक] शुद्धि-कर्ता, सफाई करनेवाला (विसे ११६६) । देखो सोहगा = शोषक ।

सोहय देखो सोहग = शोषक (उप पु २१६) ।

रोहल्ल वि [शोभावन्] शोभा-युक्त (सण भवि) ।

विष्णु । ६ परमेश्वर, परमात्मा । १० मत्सर । ११ मन्त्र विशेष । १२ शरीर-स्थित वायु की चोष्ण-विशेष । १३ मेघ पर्वत । १४ शिव, महादेव । १५ अश्व की एक जाति । १६ श्रेष्ठ । १७ अगुआ । १८ विशुद्ध । १९ मन्त्र-वर्ण-विशेष (ह २, १८२) । २० पतंग, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष (अणु ३४) । १ गन्ध पु [०र्भे] रत्न की एक जाति (शाया १, १—पत्र ३१, १७—पत्र २२६, कप्प, उत्त ३६, ७७) । १ तूली बी [०तूली] बिछौने की गद्दी (सुर ३, १८८, ६, १२८) । १ दीव पु [०दीप] द्वीप-विशेष (पञ्च ५४, ५५) । १ लङ्खण वि [०लक्षण] १ शुक्ल, सफेद (अत) । २ विशद, निर्मल (ज २) ।

हसय पुन [हसरु] नूपुर (पात्र, सुपा ३२७) ।

हसल पु [दे] आभूषण-विशेष (अणु) । देखो हासल ।

हसी बी [हसी] १ हस पक्षी की मादा (पात्र) । २ छन्द का एक भेद (पिंग) ।

हंसुलय पुं [हस] अश्व की एक उत्तम जाति (सम्मत्त २१६) ।

हंहो अ [हहो] इन अर्थों का सूचक अव्यय— १ सबोधन, धामन्त्रण (सुख २३, १, धर्मवि ५५, उप ५६७ टी) । २ तिरस्कार (धम्म ११ टी) । ३ दर्प, गर्व । ४ दम्भ, कपट । ५ प्रश्न (हे २, २१७) ।

हकुव न [हकुव] फल-विशेष (अणु ५) ।

हक्क सक [नि + विध्] निषेध करना, निवारण करना । हक्कइ (हे ४, १३४, षड्) । वक्क हक्कमाण (कुमा) ।

हक्क सक [दे] हाँकना—१ पुकारना, आह्वान करना । २ प्रेरण करना । ३ खदेडना । हक्कई (सुपा १८३) । वक्क हक्कत (सुर १५, २०३, सुपा ५३८) । कवक्क हक्किज्जत (सुपा २५३) । सक्क हक्किय, हक्किउ, हक्किऊण (सुर २, २३१, सुपा २४८, महा) ।

हक्का बी [दे] हाँक—१ पुकार, बुलाहट, आह्वान । २ प्रेरण, 'धवलो धुरम्मि जुत्तो न

सहइ उच्चारिय हक्क' (वज्जा ३८, पिंग, सुपा १५१, सिरि ४१०, उप पृ ७८) ।

हक्कार सक [आ + कारय्] पुकारना, आह्वान करना, बुलाना । हक्कारइ (महा, भवि) । हक्कारह (सुपा १८८) । कर्म, हक्कारिज्जनु (सुर १, १२६, सुपा २६२) । वक्क हक्कारैत, हक्कारेमाण (सुर ३, ६८, शाया १, १८—पत्र २४०) । सक्क हक्कारिऊण, हक्कारेऊण (कुप्र ५, सुपा २२०) । प्रयो हक्कारावइ (सुपा ११८) ।

हक्कार सक [दे] ऊँचे फैलाना । कर्म, हक्कारिज्जति (सिरि ४२४) ।

हक्कार पुं [हाकार] १ युगलिको के समय की एक दण्डनीति (ठा ७—पत्र ३६८) । २ हाँकने की आवाज (सुर १, २४६) ।

हक्कारण न [आकारण] आह्वान (स २६४, कुप्र ११६) ।

हक्कारिअ वि [आकारित] आहूत (सुपा २६६, श्रोष ६२२ टी, महा) ।

हक्किअ वि [दे] हाँका हुआ—१ खदेडा हुआ, 'हक्किअो करो' (महा), 'जेण तअो पासत्थाइतेणसेणावि हक्किया सम्म' (साधं १०३) । २ आहूत (कुप्र १४१) । ३ प्रेरित (सुपा २६१) । ४ उन्नत (पड्) ।

हक्किअ वि [निपिद्ध] निवारित (कुमा) ।

हक्कोद्ध वि [दे] अभिलषित (दे ८, ६०) ।

हक्कुत्त वि [दे] उत्पादित, उठाना हुआ, उत्तिक्षत (दे ८, ६०, पञ्च ११७, ५, पात्र, स ६१४) ।

हक्कुव सक [उत् + क्षिप्] १ ऊँचा करना, उठाना । २ फेंकना । हक्कुवइ (हे ४, १४४), 'तणुयरेहो देवो हक्कुवइ व कि महासेल' (विसे ६६५) ।

हक्कुविअ वि [उत्तिक्षत] उत्पादित (कुमा) ।

हक्का बी [हत्या] वध, घात (कुप्र १५७, धर्मवि १७) ।

हट्ट पु [हट्ट] १ आपाण, बाजार (गा ७६४, भवि) । २ दूकान (सुपा ११, १८६) । १ गाई, १ गावी बी [०गवी] व्यभिचारिणी बी, कुलटा (सुपा ३०१, ३०२) ।

हट्टिगा } बी [हट्टिका] छोटी दूकान (मोह
हट्टी } ६२, सुपा १८६) ।

हट्ट वि [हट्ट] १ हर्ष-युक्त, आनन्दित । १ विस्मित (उवा, विपा १, १, श्रौप, तपो) । ३ नीरोग, रोग-रहित, 'हट्टेण गित्ताणेण ३ अणुगतवो अणुगदिणम्मि नियमेण कायर्थो (पव ४—गाथा १६२) । ४ शक्तिशाली जवान, समर्थ तक्षण (कप्प) । ५ दृढ़, मज्जित (श्रोष ७५) ।

हट्ट देखो भट्ट (गा ६५४ अ) ।

हट्टमहट्ट वि [दे] १ नीरोग । २ दक्ष, चतुर (दे ८, ६५) । ३ स्वस्थ युवा (पड्) ।

हड वि [दे हट] जिसका हरण किया गया हो वह (दे ८, ५६, कप्प) ।

हडक } (मा) देखो हिअय = हृदय (श्रौप
हडक } १०५, १०२, प्राप, नाट—पृष्ण
६१, पि ५०, १५०) ।

हडप्प } पु [दे] १ पात्र विशेष, द्रम
हडप्प } आदि का पात्र । २ ताम्बूल धारि
का पात्र (श्रौप) । ३ आभरण का करणक
(शाया १, १ टी—पत्र ५७, ५८) ।

हडहड पु [दे] १ अनुराग, प्रेम (दे ८, ७४
(पड्) । २ ताप (दे ८, ७५) ।

हडहड पु [हडहड] 'हड हड' आवाज (सिरि
७७६) ।

हडाहड वि [दे] अत्यर्थ, अत्यन्त (विपा १,
१—पत्र ५ शाया १, १६—पत्र १६६) ।

हडि पु [हडि] काष्ठ का वन्धन-विशेष, काठ
की बेड़ी (शाया १, २—पत्र ८६, विपा १,
६—पत्र ६६, श्रौप, कम्म १, २३) ।

हड्ड न [दे] हाड, अस्थि (दे ८, ५६, तुडु
३८, सुपा ३५५, अणु १००) ।

हट्ट पु [हट्ट] १ बलात्कार (पात्र, परह १,
३—पत्र ४४, दे १, १६) । २ जब मे होत
वाली वनस्पति-विशेष, कुम्भी, जलकुम्भी,
काई, 'वायाइदो व्व हट्टो अट्टिमप्पा भवि
स्तसि' (उत्त २०, ४४, सूअ २, ३, १८,
परण १—पत्र २४) ।

हण सक [हण] १ वच करना । २ जान
गति करना । हणइ, हणिया (कुमा, भाचा) ।
भुका हणियु, हणीअ (भाचा, कुमा) ।
भवि, हणियो (कुमा) कर्म हणि
उजइ, हणिज्जण, हणणण, हणइ, हणइ
(हे ४, २४५, कुमा, प्राप् १६, भाचा) ।

बौद्ध साधु-विशेष, हाथी को मारकर उसके मांस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्तवाला सन्यासी (श्रौप, सूअनि १६०)। °नायपुर देखो °नागपुर (भवि)। °पाल पु [°पाल] भगवान् महावीर के समय का पावापुरी का एक राजा (कप्प)। °पिपली की [°पिपली] वनस्पति-विशेष (उत्त ३४, ११)। °मुह पु [°मुख] १ एक अन्तर्द्वीप। २ वि उसका निवासो मनुष्य (ठा ४, २—पत्र २२६, इक)। °रयण न [°रत्न] उत्तम हाथी (श्रौप)। °राय पु [°राज] उत्तम हाथी (सुपा ४२६)। °वाउय पु [°व्यापृत] महावत (श्रौप)। °वाल देखो °पाल (कप्प)। °विजय न [°विजय] वैताव्य की उत्तर श्रेणि का एक विद्याघर नगर (इक)। °सीस न [°शीर्ष] एक नगर, जो राजा दमदन्त की राजधानी थी (उप ६४८ टी)। °सुडिया देखो °सोंडिगा (राज)। °सोंड पु [°शौण्ड] त्रीन्द्रिय जन्तु-विशेष (परण १—पत्र ४५)। °सोंडिगा की [°शुण्डिका] आसन-विशेष (ठा ५, १ टी—पत्र २६६)। हत्थिअचकखु न [दे] वक्र अवलोकन (दे ८, ६५)।

हत्थिअचकखु वि [हस्तीय, हस्त्य] हाथ का, हाथ-सबन्धी (पिंड ४२४)।

हत्थिणउर न [हस्तिनापुर] नगर-विशेष
हत्थिणपुर (ठा १०—पत्र ४७७, सुर
हत्थिणाउर १०, १५५, महा, गउड, सुर
हत्थिणापुर १, ६४, नाट—शकु ७४,
अत)।

हत्थिणी देखो हत्थि।

हत्थिमल्ल पु [दे] इन्द्र-हस्ती, ऐरावण हाथी (दे ८, ६३)।

हत्थियार न [दे] १ हथियार, शस्त्र (धर्मस १०२२, ११०४, भवि)। २ बुद्ध, लडाई, 'ता उट्टेहि सपय करेहि हत्थियार ति', 'देव, कोइसं देवेण सह हत्थियारकरण' (स ६३७, ६३८)।

हत्थिलिज्ज न [हस्तिलीय] एक जैन-मुनि-कुल (कप्प)।

हत्थिवय पु [दे] ग्रह-भेद (दे ८, ६३)।

हत्थिहरिद्ध पु [दे] वेध (दे ८, ६४)।

हत्थुत्तरा की [हस्तोत्तरा] उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (कप्प)।

हत्थुल्ल देखो हत्थ (हे २, १६४, षड्)।

हत्थोडी की [दे] १ हस्ताभरण, हाथ का आभूषण। २ हस्त-प्रायृत, हाथ से दिया जाता उपहार (दे ८, ७३)।

हत्थलेव पु [दे] हस्त-ग्रहण, पाणि-ग्रहण (सिदि १५८)।

हृद देखो ह्य = हत (प्राप्र, प्राक १२)।

हृद } पुं [दे] बालक का मल-मूत्रादि (पिंड
हृद } ४७१)।

हृदय पु [दे] हास, विकास (दे ८, ६२)।

हृद्धि } अ [हा धिक्] १ खेद। २ अनुताप
हृद्धी } (प्राक ७६, षड्, स्वप्न ६१, नाट—
शकु ६६, हे २, १६२)।

हमार (अप) वि [असमदीय] हमारा, हमसे सबन्ध रखनेवाला (पिग)।

हमिर देखो भमिर (पि १८८)।

हम्म सक [हम्] वध करना। हम्मइ (हे ४, २४४, कुमा, सक्षि ३४, प्राक ६८)।

हम्म सक [हम्म] जाना। हम्मइ (हे ४, १६२)।

हम्म न [हम्म्यं] क्रीडा-गृह (से ६, ४३)।

हम्मं देखो हण = हन्।

हम्मार देखो हमार (पिग)।

हम्मिअ वि [हम्मित] गत, गया हुआ (स ७४३)।

हम्मिअ न [दे हम्म्यं] गृह, प्रासाद, महल (दे ८, ६२, पाप्र, सुर ६, १५०, आचा २, २, १, १०)।

हम्मीर पु [हम्मीर] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का एक मुसलमान राजा (ती ५, हम्मीर २७, पिग)।

ह्य वि [ह्यत] जो मारा गया हो वह (श्रौप, से २, ११, महा)। °माओड पु [°मत्ओट] एक विद्याघर-नरेश (पउम १०, २०)। °स वि [°श] निराश (पउम ६१, ७४, गा २८१, हे १, २०६, २, १६५, उव)।

ह्य पुं [ह्य] अश्व, घोडा (श्रौप, से २, ११, कुमा)। °कठ पु [°कठ] रत्न-विशेष, अश्व के कठ जितना बड़ा रत्न (राय ६७)। °कण्ण, °कण पुं [°कर्ण] १ एक अन्तर्द्वीप।

२ वि. उसका निवासो मनुष्य (इक, ग५, २—पत्र २२६)। ३ एक अनार्य देश (प २७४)। °मुह पु [°मुख] १ एक अन्तर्द्वीप (इक)। २ एक अनार्य देश (पत्र २७४)।

ह्य देखो हिअ = हत (महा, भवि, पत्र ४४)।

ह्य देखो हर = ब्रह्म। °पोंडरीय पु [°पुण्डीरीक] पक्षि-विशेष (परण १, १—पत्र ८)।

°ह्य देखो भय (गा ३८०)।

ह्यमार पु [दे ह्यमार] कणेर का पत्र (पाप्र)।

हर सक [हृ] १ हरण करना, छीना। २ प्रसन्न करना, खुश करना। हृद (हे ४, २३४, उव, महा)। कर्म, हरिबद्ध, होइ, हरीअइ, हीरिज्जइ (हे ४, २५०, पात्र १५७)। वक्र हरत (पि ३६७)। वक्र हीरत, हीरमाण (गा १०५, सुर ११, १११, सुपा ६३५)। सक्क हरिअ (महा)। हेक्क हरिउ (महा)। क, हिज्ज, हेज्ज (पिंड ४४६, ४५३)।

हर सक [हृ] ग्रहण करना, लेना। हृद (हे ४, २०६)।

हर सक [हृद] आवाज करना। °हरइ वि ५, ७१)।

हर पु [हर] १ महादेव, शंकर (सुपा ३६३, कुमा, षड्, हे १, ५१, गा ६८७, ७६५)। २ छन्द-विशेष (पिग)। °मेहल न [°मेहल] कला-विशेष (सिदि ५६)। °वल्लभा ती [°वल्लभा] गौरी, पार्वती (सुपा ५९७)।

हर पुं [हृद] ब्रह्म, बडा जलाशय (से ६, ६५)।

हर देखो घर = गृह, 'ता वच पहिय मा मण वासय एत्थ मज्ज हरे' (वज्जजा १००, कुमा सुपा ३६३, हे २, १४४)।

°हर देखो घर = घृ। क. °हरेअव्व (स ६, ३)।

°हर देखो भर = भर (पउम १००, ५४, सुपा ४३२)।

°हर वि [°हर] हरण-कर्ता (सण)।

°हर वि [°घर] धारण करनेवाला (गा ३६५, ३६५)।